

50

स्वाधीनता के  
पचास वर्ष

# समांतर कोश

हिंदी थिसारस  
अनुक्रम खंड

अरविंद कुमार  
कुसुम कुमार



# समांतर कोश

हिंदी थिसारस

अनुक्रम खंड

अरविंद कुमार

सहायिका

कुसुम कुमार

कंप्यूटर प्रोग्रामिंग

डा. सुमीत कुमार

एक ही मूल्य

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, ए-5 ग्रीन पार्क,  
नयी दिल्ली-110016 द्वारा प्रकाशित

## विषय सूची

प्रस्तुति	5
समांतर कोश का उपयोग ऐसे क	8
समांतर कोश का आयोजन	10
शीर्षक सूची	11
संकेत	16
संदर्भ खंड	17
अनुक्रम खंड	605



समांतर कोश

अनुक्रम खंड

## अनुक्रम का उपयोग ऐसे करें

समांतर कोश में किसी भी संदर्भ की आप की तलाश अनुक्रम से आरंभ होती है। सब से पहले आप अनुक्रम में वह शब्द तलाशते हैं जो आप को याद आ रहा है। उस खोज शब्द के नीचे कुछ विकल्प लिखे होते हैं। उन में से अपने वांछित विकल्प का पता देख कर आप संदर्भ खंड में गंतव्य शब्द तक जाते हैं और अपनी इच्छा के अनेक शब्द पाते हैं।

अनुक्रम में खोज शब्दों को भारी अक्षरों में अकारादि क्रम से, या कोश क्रम से, रखा गया है। हर खोज शब्द के नीचे उस के मुख्य अर्थ हलके अक्षरों में छपे हैं। इन्हें परस्पर कोश क्रम से, और अलग अलग पंक्ति में, रखा गया है। इस से इन की अलग पहचान आसानी से हो सकेगी।

यदि आप को किसी शब्द के प्रमुख अर्थों की ही तलाश है तो आप का काम यहीं समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अनुक्रम आप के लिए एक तत्काल कोश का काम भी करता है।

अनुक्रम का काम यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यहाँ से शुरू होता है। यह आप को संदर्भ खंड में उस जगह ले जाने की कुजी है, जहाँ आप को मनोवांछित शब्द मिलेंगे।

आप को किसी भी अर्थ के विस्तार में जाना हो, उस के समांतर या विपरीत शब्दों की तलाश हो, तो—

हर अर्थ के सामने एक सख्या लिखी है। पहली संख्या है शीर्षक संख्या। पूर्ण बिंदु के बाद दूसरी संख्या है उपशीर्षक की संख्या। यह संख्या आप के गतव्य शब्द का पता है। यह बताती है कि संदर्भ खंड में तत्संबंधी शब्दों को किस शीर्षक के अंतर्गत किस उपशीर्षक में रखा गया है।

उदाहरण के लिए, अनुक्रम के पहले पृष्ठ पर तीसरा शब्द है *अंक*। *अंक* के कई अर्थ और संदर्भ हैं। उस में एक है—*नाटक: अंक* 463.25। इस प्रकार आप को पता चल गया कि *अंक* का एक अर्थ है *नाटक का अंक*। यदि आप *अंक* शब्द का यह अर्थ ही पता करना चाहते थे, तो *नाटक: अंक* के बाद दी गई संख्या से आप को कोई काम नहीं है।

यदि आप *नाटक: अंक* के लिए अन्य शब्द जानना चाहते हैं, या इस से संबंधित अन्य शब्दों तक पहुँचना चाहते हैं, जैसे *नाटक: दृश्य* या *अभिनय*, या *रगमंच*, तो आप के लिए उस के सामने लिखी संख्या का महत्व हो जाता है। यह संख्या आप को 463 संख्या वाले शीर्षक में 25वें उपशीर्षक तक ले जाएगी। यह शीर्षक आप को *नाटक*, *रंगमंच* संबंधी शब्द समूहों में ले जाएगा।

जब किसी खोज शब्द के नीचे एक या एकाधिक संदर्भ लिखे हैं, और उन में से किसी के अंत में उस की पता संख्या की ओर संकेत करता तीर का निशान बना है, तो इस का अर्थ है कि इस खोज और गतव्य शब्द का अपना मुख्य उपशीर्षक वही है। जैसे—

### अँधेरी रात

अँधेरी रात 48 3 ⇐

अमावस रात 48 5

इस से पता चलता है कि *अँधेरी रात* के पर्याय आप को 48 3 पते पर मिलेंगे। और स्पष्ट है कि संदर्भवश *अमावस की रात* भी *अँधेरी रात* कहलाती है और उस के पर्याय आप को *अमावस रात* के पते पर मिलेंगे।

अनुक्रम आप को शब्दों के अर्थ ही नहीं देता, बल्कि अर्थों के शब्द भी देता है। अगर आप को *इंद्रत* शब्द याद नहीं आ रहा, तो आप उसे किसी शब्दकोश में कहाँ ढूँढ़ेंगे? अगर आप इस शब्द की खोज में हैं, तो आप इतना तो जानते ही हैं कि *इंद्रत* का संबंध *तलाक* से है। स्वभावतः आप अनुक्रम में *तलाक* शब्द खोजेंगे। *तलाक* वहाँ पर खोज शब्द है। उसी के नीचे एक और खोज शब्द है

तलाक: 3 मास 10 दिन

इंद्रत 804.10

यहाँ अर्थ या परिभाषा को खोज शब्द के रूप में लिखा गया है, और उस के नीचे है अर्थ के लिए मूल शब्द *इंद्रत*।

इस प्रकार अनुक्रम शब्दकोश से बिल्कुल विपरीत काम भी करता है—अर्थ को शब्द देने का।



# अनुक्रम

(कोश क्रम से)

<b>अ</b>	<b>अंक गणित और बीज गणित</b>	<b>अंक प्रदान</b>	<b>अंकिक</b>
अँ	व्यक्त गणित 952 3	अक प्रदान 322 22 ⇨	सांख्यिकी विद 953 11
अनुनासिक वर्ण 410 8	<b>अंकगत</b>	<b>अंकमुखा</b>	<b>अंकिका</b>
<b>अ</b>	पाशबद्ध 868 38	नाट्य आरम्भ सूची 468 24	लेखा पुस्तक 632 8
अनुरचार 410 10	<b>अंक घड़ी</b>	<b>अँकरास</b>	<b>अंकिकी</b>
<b>अक</b>	अक घड़ी 50.21 ⇨	जकड़न 382 10	सांख्यिकी 953 10
अक्षर 410 2	<b>अँकटी</b>	देह शैथिल्य 492 5	<b>अंकित</b>
अपराध 861 1	ककड़ी 938 36	<b>अँकरी</b>	क्रमांकित 991 26
एक 348 17	<b>अंक डालना</b>	ककड़ी 938 36	गिना [गिनी] 950 12
कटि 147 7	क्रमांकन करना 991 17	<b>अँकरोर</b>	चित्रांकित 404 36
गोदी 721 7	<b>अँकड़ी</b>	रोडा 938 48	चिह्नित 407 23
घुमावदार रेखा 968 14	अँकुसी 559 1	<b>अँकरोरा</b>	तप्त चिह्नित 407 24
चिह्न 407 1	लगा 563 6	रोड़ा 938 48	लाघित 843 23
छाप 414 9	<b>अंकतत्र</b>	<b>अँकरोरी</b>	लिपिबद्ध 412 44
जल 88 1	अक गणित 953 1	ककड़ी 938 36	लेखाकृत 632 39
तप्त चिह्न 407 6	बीज गणित 953 4	रोड़ी 938 49	हस्ताक्षरित 444 37
तापाक 103 11	<b>अंकति</b>	<b>अँकरोरी</b>	<b>अंकित अंश</b>
ददाना 970 11	अग्नि 106 1	ककड़ी 938 36	ददाना 970 11
धब्बा 217 2	अग्निहोत्री 753 11	रोड़ी 938 49	<b>अंकितता</b>
धर्म चिह्न 407 7	वायु 85 1	<b>अंक लगाना</b>	लिपिबद्धता 412 3
धारावाही किरत 447 15	<b>अंकन</b>	आलिगन करना 237 12	<b>अंकित पत्र</b>
नजर टीका 710 11	अक प्रदान 322 22	<b>अंकलोक</b>	दस्तावेजी कागज 412 22
नाटक अक 463 25	आकलन कर्म 947 6	घटान कर्म 954 6	<b>अंकित मूल्य</b>
पत्र पत्रिका अक 445 3	उत्कीर्णन 406 19	<b>अँकवार</b>	अंकित मूल्य 664 2 ⇨
पार्थ भाग 997 5	क्रमांकन 991 14	आलिगन 237 8	<b>अंकित (अ)</b>
पुरतफ खड 447 1	चित्रांकन 404 24	गोदी 721 7	चिह्नित 407 3
पूर्ण संख्या 949 11	चिह्नन 407 2	<b>अँकवारना</b>	<b>अंकिनी</b>
पूर्णक 322 20	लिपिबद्धन 412 2	आलिगन करना 237 12	सुदर स्त्री 157 2
प्रतीक 408 1	<b>अंकन करना</b>	<b>अक विद्या</b>	<b>अंकित</b>
बगल 147 5	क्रमांकन करना 991 17	अक गणित 953 1	कोयला 110 6
भिन्न संख्या 949 16	<b>अंक निर्धारण</b>	<b>अंक शायिनी</b>	<b>अंकीय</b>
युद्ध अभ्यास 907 31	अक प्रदान 322 22	पत्नी 803 6	गोदी विषयक 721 17
संख्या अक 948 3	<b>अंकनी</b>	<b>अंक शास्त्र</b>	<b>अँकुड़ा</b>
हुक 1016 32	पैसिल 416 8	अक गणित 953 1	कुलाबा 609 14
<b>अंक: अंत</b>	<b>अंक पलई</b>	अक शास्त्र 262 5 ⇨	लगर 1073 17
यवनिका पात 606 3	कूट लिपि 409 3	सांख्यिकी 953 10	<b>अँकुड़ी</b>
<b>अंक: आरंभ</b>	जोड़ कर्म 954 2	<b>अंक शास्त्री</b>	अक्षाय कील 1077 14
यवनिका उत्थान 606 2	<b>अंकपालि</b>	सांख्यिकी विद 953 11	लगर 1073 17
<b>अंकक</b>	गोदी 721 7	<b>अँकसी</b>	हल अँकुड़ी 563 9
चिह्नित 407 3	<b>अंकपालिका</b>	अँकुसी 559 1	<b>अँकुड़ी पट्टी</b>
मूल्यांकन कर्ता 664 28	गोदी 721 7	<b>अँका [अँकी]</b>	बैलको 571 19
<b>अंककार</b>	दाई 244 6	आकलित 947 21	<b>अँकुड़ी: फाल</b>
खेल निर्णायक 475 17	<b>अंकपाली</b>	<b>अँकाई</b>	हल फाल 563 12
प्रतिनिधि योद्धा 934 18	आलिगन 237 8	आकलन कर्म 947 6	<b>अंकुर</b>
<b>अंक गणित</b>	परिचारिका 651 29	चिह्नन 407 2	अंकुर 113 1 ⇨
अंक गणित 953 1 ⇨	<b>अंकपूरण</b>	<b>अँकाव</b>	अर्बुद 166 1
	गुणन कर्म 955 1	आकलन कर्म 947 6	आरंभिक अवस्था सूची 994 23

## अंकुर आना

कली 115 5  
 कुश घास 118  
 घर्मकील 165 7  
 नव पल्लव 115 2  
 नव रोम 135 2  
 पौद 113 5  
 शोथ 166 8  
 सतान समष्टि 718 2  
**अंकुर आना**  
 अंकुर निकलना 117 10  
**अंकुरण**  
 अंकुरण 117 1 ⇨  
**अंकुरण विंदु**  
 अंकुरण विंदु 117 2 ⇨  
**अंकुरना**  
 अंकुर निकलना 117 10  
**अंकुर निकलना**  
 अंकुर निकलना 117.10 ⇨  
**अंकुर फूटना**  
 अंकुर निकलना 117 10  
**अंकुर रोपना**  
 रोपित करना 548 36  
**अंकुरा [अंकुरी]**  
 अंकुरित 117 18  
**अंकुराना**  
 अंकुर निकलना 117 10  
**अंकुराया [अंकुराई]**  
 अंकुरित 117 18  
**अंकुरार्बुद**  
 घर्मकील 165 7  
**अंकुरावली**  
 त्वचा स्तर सूची 134 7  
**अंकुरित**  
 अंकुरित 117 18 ⇨  
**अंकुरितयौवना**  
 मुग्धा नायिका 456 8  
**अंकुरित होना**  
 अंकुर निकलना 117 10  
**अंकुरी**  
 अनाज पौद 113 6  
**अंकुरा**  
 अंकुरा 555 20 ⇨  
 नियंत्रण उपमान सूची 899 27  
**अंकुरा धारी**  
 महावत 1082 15  
**अंकुरा लगाना**  
 नियंत्रित करना 899 20  
 पशु वेग कम करना 1043 15  
**अंकुराहीन**  
 निरंकुरा 881 40  
**अंकुराहीनता**  
 निरंकुरा तत्र 881 22  
**अंकुराशित**  
 नियंत्रित 899 24  
**अंकुराशित शासन**  
 सनियम शासन 893 2  
**अंकुरी**  
 महावत 1082 15

**अंकुरी**  
 अंकुरी 559 1 ⇨  
 हुक 1016 32  
**अंकुरी: बौस**  
 लाग्ना 563 6  
**अंकेशक**  
 लेखा परीक्षक 632 34  
**अंकेशा**  
 लेखा परीक्षा 632 33  
**अंकेशित लेखा**  
 परीक्षित लेखा 632 3  
**अंकोर**  
 गोदी 721 7  
**अंकोरी**  
 गोदी 721 7  
**अंक्षय**  
 अपराधी 861 14  
 मृदग 461 72  
**अंखडी**  
 नेत्र 141 1  
**अंख मूदनी**  
 आँख मिचोनी 476 2  
**अंखियाँ**  
 नेत्र 141 1  
**अंखुआ**  
 अंकुर 113 1  
 अंकुरण विंदु 117 2  
**अंखुआना**  
 अंकुर निकलना 117 10  
**अंखुआया [अंखुयाई]**  
 अंकुरित 117 18  
**अंग**  
 अंग 139 8 ⇨  
 आयाम 964 1  
 कला शैली 397 14  
 खड 938 1  
 गादी 721 7  
 छह उपमान सूची 948.28  
 पार्श्व 997 1  
 वक्ष 146 1  
 शरीर 139 1  
 स्त्री रतन 146 7  
**अंग अनुपात**  
 अंग अनुपात 155 1 ⇨  
**अंग अनुभूति**  
 चेतना 263 4  
**अंग उत्तरना**  
 अंग विस्थापित होना 153 13  
**अंगक**  
 अंग आहार 641 11  
**अंग कर्म**  
 शरीर चर्या 225 1  
**अंग: कसापन**  
 सुगठित कायता 160 6  
**अंग काटना**  
 विकलाग करना 153 11  
**अंगघात**  
 अंगघात 264.8 ⇨

पक्षाघात 264 11  
**अंगघारी**  
 पुरुष मित्र 705 2  
**अंग घिहान**  
 अंग घिहान 261 35 ⇨  
**अंग घेष्टा**  
 अंग घेष्टा 462 21 ⇨  
**अंग घेष्टा: शुभाशुभ कथन**  
 घेष्टा शास्त्र 262 6  
**अंगछेद**  
 अंगछेदन 153.4  
**अंग घूना**  
 शपथ लेना 339 31  
**अंगछेद**  
 आपरेशन 174 3  
**अंगछेदन**  
 अंगछेदन 153 4 ⇨  
**अंगज**  
 कामदेव 773 12  
 काम वासना 237 5  
 पुत्र 718 3  
**अंगज [अंगजा]**  
 औरस 718 15  
**अंगज अलंकार**  
 अभिनय अलंकार सूची 464 29  
**अंगजा**  
 पुत्री 718 10  
**अंगजात**  
 औरस 716 15  
 कामदेव 773 12  
**अंगजाया [अंगजाई]**  
 औरस 716 15  
**अंग ज्वर**  
 क्षय रोग 163 35  
**अंग दूटना**  
 देह शिथिल होना 492 12  
**अंगड खंगड**  
 दूटा फूटा [दूटी फूटी] 539 16  
 रही 526 13  
**अंगझाई**  
 अंगझाई 960 3 ⇨  
**अंगझाई लेना**  
 अंगझाई लेना 860 13 ⇨  
**अंगझाना**  
 अंगझाई लेना 860 13  
**अंगति**  
 आहुति दान 753 6  
 विष्णु 768.1  
**अंग तोड़ना**  
 विकलाग करना 153 11  
**अंगत्राण**  
 कषय 921.2  
**अंग थकना**  
 देह शिथिल होना 492.12  
**अंगद**  
 अंगद (वानर) 781.8  
 बाजूबद 228.20  
 लक्ष्मण पुत्र सूची 770.51

वानर सूची 781 7  
**अंगद (वानर)**  
 अंगद (वानर) 781.8 ⇨  
**अंगद देव**  
 सिख गुरु सूची 794 2  
**अंगदा**  
 चद्र कला सूची 8 4  
**अंगदान**  
 युद्ध समर्पण 916 9  
**अंग दीप्ति**  
 अंग दीप्ति 157 6 ⇨  
**अंग द्वार**  
 शरीर रक्ष 138 1  
**अंग धरना**  
 पहनना 589 22  
**अंग धारना**  
 पहनना 589 22  
**अंगधारी**  
 जीव 121 4  
 शरीरी 139 13  
**अंगन**  
 आँगन 604 4  
 घेहलकदमी 1084 7  
 विचरण 1085 1  
**अंग न समाना**  
 अति आनदित होना 382 12  
**अँगना**  
 आँगन 604 4  
**अँगना**  
 बैगन 189 29  
**अँगना**  
 भीतर वाला आँगन 604 6  
**अँगना**  
 सुंदर स्त्री 157 2  
 स्त्री 236.3  
**अँगनाम्रिय**  
 अशोक 13 4  
**अँगनाशा**  
 अंगघात 264 8  
**अँगन्यास**  
 स्थानक 464 26  
**अँगपाली**  
 आदिगन 237 8  
**अँग पुनस्थापना**  
 अँग पुनस्थापना 153 9 ⇨  
**अँग प्रदर्शन**  
 अँग प्रदर्शन 590 7 ⇨  
**अँग प्रहार**  
 अँग प्रहार 318.8 ⇨  
**अँग प्रोक्षण**  
 अँगोष्ठ 221 15  
**अँग भंगिमा**  
 अँग मुद्रा 464.33  
 अदा 860 4  
**अँग भंगी**  
 अदा 860 4  
**अँग भाव**  
 अँग मुद्रा 464.33

**अंग भाषा**  
 अंग भाषा 422.1 ⇨  
**अंगभूत**  
 समाधिष्ट 1002 21  
**अंगभूत रस**  
 अप्रधानं रस 455 3  
**अंगमर्द**  
 मालिशिया 225 3  
**अंग मर्दन**  
 मालिश 225.2  
**अंग मर्दन कुरती**  
 जरासंधी कुरती 486 13  
**अंगमर्दी**  
 मालिशिया 225 3  
**अंग मार**  
 अंग प्रहार 918 8  
**अंग मुद्रा**  
 अंग मुद्रा 464 25 ⇨  
 अंग मुद्रा 464 33 ⇨  
**अंग मोड़ना**  
 अंगड़ाई लेना 860 13  
 लज्जा प्रदर्शन करना 845 7  
**अंगयष्टि**  
 छरहरा शरीर 154 11  
**अंगयुक्ता**  
 आयामयुक्ता 964 2  
**अंग रंजन**  
 अंग रंजन 225 4 ⇨  
 नाट्य मेकअप 464 39  
**अंग रंजित**  
 अंग रंजित 225 39 ⇨  
**अंगरक्षक**  
 अंगरक्षक 908 21 ⇨  
**अंगरक्षी**  
 कवच 921 2  
**अंगरखा**  
 अंगरखा 585 28 ⇨  
 अचकन 585 46  
**अंगरखा सूची**  
 अंगरखा सूची 585 29 ⇨  
**अंगरना**  
 इतराना 860 15  
**अंगराग**  
 उबटन 225 5  
**अंगराग कर्म**  
 अंग रंजन 225 4  
**अंगराज**  
 कर्ण 771 47  
**अंगराना**  
 अंगड़ाई लेना 860 13  
**अंगरी**  
 कवच 921.2  
**अंगरुह**  
 शरीर रोम 135 1  
**अंगरेजी**  
 भारत राजभाषा सूची 421.5  
 भारत राष्ट्रभाषा सूची 421.4

**अंगरेजी अंक**  
 अंतरराष्ट्रीय अंक 948 5  
**अंगरेजी राज समर्थन**  
 स्वतंत्रता विरोध 904 14  
**अंग लगना**  
 परिचय बकाना 704 17  
 पुष्ट होना 179.20  
**अंग लगाना**  
 आलिंगन करना 237 12  
**अंगलेट**  
 अंग अनुपात 155 1  
**अंग लेप**  
 मरहम 176 21  
**अंग लेपन**  
 अंग रंजन 225 4  
**अंगवस्त्र**  
 उपहार परिधान सूची 583 23  
**अंगवाहा**  
 कृषि सहयोग सूची 553 28  
**अंगयिकल**  
 मूर्च्छित 264 23  
 विकलांग 153 15  
**अंग विकलन**  
 विकलांगीकरण 153 3  
**अंग विकृत करना**  
 अंग विरूपण करना 153 12  
**अंग विक्षेप**  
 अंग चेष्टा 462 21  
**अंग विगलन**  
 गैंग्र 167 5  
**अंगविद**  
 अंगविद्य 261 45  
**अंगविद्य**  
 अंगविद्य 261 45 ⇨  
**अंग विद्या**  
 अंग विद्या 261.34 ⇨  
**अंग विरूपण**  
 अंग विरूपण 153.7 ⇨  
**अंग विरूपण करना**  
 अंग विरूपण करना 153.12 ⇨  
**अंग विस्थापना**  
 अंग विस्थापना 153 8 ⇨  
**अंग विस्थापित होना**  
 अंग विस्थापित होना 153 13 ⇨  
**अंग शुद्धि**  
 स्नान 221 9  
**अंग शोष**  
 कुपोषण 179 4  
**अंग संग**  
 रति सयोग 257 10  
**अंग संधि**  
 अवयव संधि 139.10  
**अंग सखा**  
 घनिष्ठ मित्र 704 14  
**अंग सख्य**  
 घनिष्ठता 704.13  
**अंग सिकोड़ना**  
 लज्जा प्रदर्शन करना 845.7

**अंग सिंहरी**  
 झुरझुरी 1039 13  
**अंग स्पंदन**  
 अंग स्फुरण 1039 7  
**अंग स्फुरण**  
 अंग स्फुरण 1039 7 ⇨  
**अंगहार**  
 अंग चेष्टा 462 21  
 करण 464 21  
**अंगहीन**  
 कामदेव 773 12  
 निराकार 967 13  
 विकलांग 153 15  
**अंगांगी भाव**  
 अटूट सबंध 715 3  
**अंगा**  
 अंगरखा 585 28  
**अंगाकडी**  
 बाटी 202 17  
**अंगाक्रिया**  
 कूरियर 444 20  
**अंगाधिप**  
 लग्नाधिपति 261 19  
**अंगाधीश**  
 लग्नाधिपति 261 19  
**अंगानुभूति**  
 चेतना 263 4  
**अंगामिनय**  
 शारीर अभिनय 464 20  
**अंगार**  
 अंगारा 106 12  
 कोयला 110 6  
 धिगारी 106 11  
 लकड़ी कोयला 110 7  
**अंगारक**  
 अंगारा 106 12  
 असुर सूची 783 8  
 मंगल ग्रह 7 7  
**अंगारकाडी**  
 माघिस 107 7  
**अंगारण**  
 अंगारण 108.4 ⇨  
**अंगार परिपाचन**  
 अंगार परिपाचन 195 20 ⇨  
**अंगार परिपाचित**  
 अंगार परिपाचित 195.69 ⇨  
**अंगारपर्ण**  
 धित्ररथ 778 6  
**अंगारपाचित**  
 अंगार परिपाचित 195.69  
**अंगार पेटी**  
 माघिस पेटी 107.8  
**अंगार मणि**  
 मूंगा 97 1  
**अंगारा**  
 अंगारा 106.12 ⇨  
 अंगारा होना  
 अति क्रुद्ध होना 373 16

**अंगारिका**  
 अंगीठी 109 5  
**अंगारिणी**  
 अंगीठी 109 5  
**अंगारित**  
 दग्ध 108.13  
**अंगारी**  
 अंगारा 106 12  
 अंगीठी 109 5  
 ईख नीरस ऊपरी भाग 526 4  
 कवच 921.2  
 धिगारी 106 11  
 बाटी 202 17  
**अंगारे उगलना**  
 कटु भाषण करना 432 8  
**अंगारे बरसना**  
 कड़ी गरमी होना 53 12  
**अंगारों पर परिपाचित**  
 अंगार परिपाचित 195 69  
**अंगारों पर लोटना**  
 ईर्ष्या होना 709 3  
**अंगिका**  
 चोली 585 38  
 ब्रा 587 5  
**अंगिया**  
 चोली 585 38  
 ब्रा 587 5  
 ब्लाउज़ 585 45  
**अंगिया: कटोरी**  
 अंगिया कटोरी 585.68 ⇨  
**अंगिरस**  
 सप्तर्षि मंडल ऋषि सूची 3 11  
**अंगिरा**  
 ब्रह्मा पुत्र सूची 766.10  
 सप्तर्षि महाभारत 789 13  
**अंगिरा गुरु**  
 शिव 767 1  
**अंगिरावृत**  
 दानव सूची 783 13  
**अंगी**  
 अप्रधान 853 9  
 आयामयुक्त 964 20  
 जीव 121 4  
 नायक 467.5  
 प्रधान 852.10  
 शरीरी 139 13  
 साकार 967 12  
**अंगीकरण**  
 अंगीकरण 1002.3 ⇨  
 आदान 637 1  
 स्वांगीकरण 1002 4  
**अंगीकरण कर्ता**  
 अंगीकारक 1002.24  
**अंगीकार**  
 अपराध स्वीकृति 876.9  
**अंगीकारक**  
 अंगीकारक 1002.24 ⇨

## अंगीकार करना

**अंगीकार करना**  
अंगीकार करना 1002 16 ⇨  
**अंगीकार कर्ता**  
अंगीकारक 1002 24  
**अंगीकृत**  
अंगीकृत 1002 23 ⇨  
सहमति प्राप्त 337 20  
स्वांगीकृत 1002 25  
स्वीकृत (अपराध) 876 27  
**अंगीकृति**  
अंगीकरण 1002 3  
अपराध स्वीकृति 876 9  
स्वीकृति 337 1  
**अंगीठा**  
अंगीठी 109 5  
**अंगीठी**  
अंगीठी 109.5 ⇨  
**अंगीय**  
अंगीय 139 15 ⇨  
आयामयुक्त 964 20  
पार्श्वीय 997 9  
**अंगी रस**  
प्रधान - रस 455 2  
**अंगूठी**  
अंगूठी 228 2  
**अंगुरिया**  
उंगली 150 13  
**अंगुल**  
उंगली 150 13  
**अंगुलः 12**  
बालिशत 959 14  
**अंगुलः 4**  
गिरह 959 12  
**अंगुलप्रमाण**  
बहुत ढिगना 154 19  
**अंगुलांक**  
अंगुठा निशान 444 10  
उंगली छाप 867 3  
**अंगुलित्र**  
अंगुलताना 562 20  
मिजराब 461 100  
**अंगुली**  
उंगली 150 13  
**अंगुली बिन्दु**  
उंगली निशान 867 2  
**अंगुली त्राण**  
अंगुलताना 562 20  
दस्ताना 588 2  
**अंगुली पर्व**  
उंगली पोरवा 150.21  
**अंगुली प्रतिमुद्रा**  
उंगली छाप 867.3  
**अंगुली भाषा**  
अंगुली मुद्रा 464.34  
**अंगुली मुद्रा**  
अंगुली मुद्रा 464 34 ⇨  
अंगूठी 228 2

**अंगुली मुद्रिका**  
उंगली छाप 867 3  
**अंगुलीयक**  
अंगूठी 228 2  
**अंगुली संकेत**  
अंगुली संकेत 29 26 ⇨  
अंगुली संकेत 422 5 ⇨  
**अंगुल्यादेश**  
अंगुली संकेत 422 5  
**अंगुलत**  
उंगली 150 13  
**अंगुलतनर**  
अंगूठा 150 14  
**अंगुलतरी**  
अंगूठी 228 2  
**अंगुलताना**  
अंगुलताना 562 20 ⇨  
**अंगुल्ल**  
अंगूठा 150 14  
**अंगुल्लमात्रक**  
बहुत ढिगना 154 19  
**अंगुल्लांक**  
अंगूठा निशान 444 10  
**अंगुल्लाना**  
अकुर निकलना 117 10  
**अंगुल्ली**  
सुनार - फुंकनी 85 24  
हल अंकुडी 563 9  
**अंगूठा**  
अंगूठा 150 14 ⇨  
अंगूठा निशान 444 10  
**अंगूठा चूमना**  
चाटुकारिता करना 841 26  
**अंगूठा छाप**  
निरक्षर 320 5  
**अंगूठा-छोटी उंगली पर लिपटा धागा**  
अटी 575 3  
**अंगूठा-सर्जनीः मध्य स्थान**  
अंगूठा-सर्जनी मध्य स्थान 33.7 ⇨  
**अंगूठा दिखाना**  
अवज्ञा करना 348 4  
**अंगूठाः निशान**  
अंगूठा निशान 444.10 ⇨  
**अंगूठी**  
अंगूठी 228.2 ⇨  
**अंगूठी बदलना**  
वाग्दान करना 799 55  
**अंगूठे से चौथी उंगली**  
कनिष्ठिका 150.19  
**अंगूठे से तीसरी उंगली**  
अनामिका 150 18  
**अंगूठे से दूसरी उंगली**  
मध्यमिका 150.17  
**अंगूठे से पहली उंगली**  
तर्जनी 150 16  
**अंगूर**  
अंगूर 190.3 ⇨  
खाद्य फल सूची 190 2

**अंगूर की बेटी**  
अंगूर. मद्य 209.4  
मद्य 209 1  
**अंगूरः मद्य**  
अंगूर मद्य 209.4 ⇨  
**अंगूरी**  
अंगूर. मद्य 209 4  
**अंगूरी शराब**  
अंगूर. मद्य 209 4  
**अंगोजना**  
अंगीकार करना 1002 16  
प्रहार सहना 920 12  
**अंगेट**  
अंग दीप्ति 157 6  
**अंगेठी**  
अंगेठी 109 5  
**अंगोछ**  
अंगोछ 221.15 ⇨  
**अंगोचना**  
अंगोचना 221 24 ⇨  
**अंगोछा**  
तौलिया 221 16  
**अंगोछा करना**  
अंगोचना 221 24  
**अंगोजना**  
अंगीकार करना 1002 16  
प्रहार सहना 920 12  
**अंगोपांग**  
अंगोपांग 139 7 ⇨  
**अंगीगा**  
अन्न आहार 641.11  
**अंग्रमैन्नु**  
अहिर्मन 785 3  
**अंधिया**  
छलनी 560 21  
**अंधि**  
घरण 150 9  
मूल 112 10  
**अंधिप**  
वनस्पति 111 1  
वृक्ष 111 18  
**अंधिस्कंध**  
घुटना 149.14  
**अंधति**  
अग्नि 106.1  
**अंधरा**  
पलाव 586.24  
**अंधस**  
क्षेत्र 34 1  
पलाव 586.24  
**अंधलाधीरा**  
जनपद समूह प्रसासक 891.6  
**अंधलीय**  
क्षेत्र स्तरीय 35.2  
क्षेत्रीय 34.14  
**अंधलीयता**  
क्षेत्र स्तरीयता 35 1

**अंधलेश्वर**  
जनपद समूह प्रसासक 891.6  
**अंधित**  
यक्र 974 16  
सुंदर 157.7  
**अंधित केश**  
घुंघराले केश 137.13  
**अंधित गमन**  
अभिमान गति 1084.2  
**अंधर**  
टोना टोटका 759 1  
मंत्र नाशन 758 8  
वशीकरण 758 22  
**अंध्या**  
लोभ 359.6  
**अंजन**  
अग्नि 106.1  
दिग्गज सूची 780.3  
नेत्रांजन 225 22  
रात 48 1  
स्याही 416.25  
हनुमान 781 19  
**अंजनकेश**  
दीपक 285.13  
**अंजन गिरि**  
नीलगिरि 17.4  
**अंजन धारण**  
सोतह सिंगार सूची 222.3  
**अंजनहारी**  
अंजनहारी 167 6 ⇨  
कीट सूची 122 12  
**अंजना**  
अंजनहारी 167 6  
अंजना 781 20 ⇨  
अप्सरा सूची 782 3  
छिपकली 123.7  
दिग्गज पत्नी सूची 780.4  
**अंजना गिरि**  
पौराणिक पर्वत सूची 17 8  
**अंजनाधि**  
नीलगिरि 17 4  
**अंजनाः पति**  
केसरी 781 9  
**अंजनावती**  
दिग्गज पत्नी सूची 780.4  
**अंजना चुत**  
हनुमान 781.19  
**अंजनिका**  
चुहिया 127.61  
छिपकली 123.7  
**अंजनियारी**  
अंजनहारी 167.6  
**अंजनी**  
अंजना 781.20  
चंदन 274.20  
**अंजनी नंदन**  
हनुमान 781 19

**अंजर पंजर**  
अस्थि पंजर 133 5  
**अंजर पंजर कीले होना**  
काया शिथिल होना 159 8  
देह शिथिल होना 492 12  
बहुत थकना 492.11  
**अंजलि**  
अंजलि पात्र 150 3  
सुविध संग्रह 669.6  
**अंजलि (जैसे: गीतांजलि)**  
संकलन पुस्तक 446 23  
**अंजलि पात्र**  
अंजलि पात्र 150.3 ⇨  
**अंजलि पुट**  
अंजलि पुट 150 4 ⇨  
**अंजलिबद्धता:**  
अंजलिबद्धता 1060 29 ⇨  
**अंजलिबद्धता**  
अंजलिबद्धता 1060.29  
अंजलिबद्धता 1060 11 ⇨  
**अंजलि संयुक्त**  
अंजलि पुट 150.4  
**अंजली**  
अंजलि पात्र 150.3  
**अंजस**  
ईमानदार 815 7  
सरल 817 8  
**अंजसा**  
प्रत्यक्षत 284.55  
यथापूर्व 533.13  
**अंजही**  
अनाज मंडी 663 11  
**अंजाम**  
अत 995 1  
कार्य समाप्ति 522 1  
परिणाम 510 1  
**अंजाम को पहुँचाना**  
कार्य समापन करना 522.3  
**अंजाम देना**  
कार्य समापन करना 522.3  
**अंजि**  
जननैद्रिय 152.9  
पुरुष जननैद्रिय 152.10  
प्रेषक 1054 16  
**अंजिष्ठ**  
सूर्य 8 1  
**अंजी**  
घक्की 580.13  
**अंजीर**  
अंजीर 190.4 ⇨  
खाद्य फल सूची 190.2  
मेया सूची 191.2  
**अंजुमन**  
आकाश गंगा 1 14  
गोष्ठी 694 4  
संस्था 692.1  
सभा 694.1

**अंजुमनआरा**  
गोष्ठी शोभा 694.5  
**अंजुरी**  
अंजलि पात्र 150 3  
**अंजुली**  
अंजलि पात्र 150 3  
**अंजोरना**  
घोरी करना 864 44  
दीप जलाना 285 40  
संग्रह करना 669.18  
**अंजोरा**  
प्रकाश 287 1  
**अंजोरी**  
अंतरधंद्रता 285 34  
घोंदनी 287 6  
**अंझा**  
नागा 494 7  
**अंटना**  
सही आकार होना 961 15  
**अंटरांट**  
असंगत 439 5  
क्रमहीन 992.5  
बकवासपूर्ण 428.25  
**अंटरांट**  
असंगत 439 5  
विविध सामग्री 669.4  
**अंटा**  
अंटी 575.3  
कौड़ी. अंटा 479.27  
गोली 479 7  
विलियर्ड 478 3  
**अंटाघर**  
विलियर्ड कक्ष 482.5  
**अंटाधित**  
धित 486 27  
स्तम्भ कृत 758 42  
**अंटाना**  
भरा जाना 1004.7  
**अंटा बंधु**  
कौड़ी. अंटा बंधु 479 28  
**अंटिया**  
छोटा पूला 686 20  
**अंटियाना**  
लपेटना 575.11  
**अंटी**  
अंगूठा-तर्जनी: मध्य स्थान 33.7  
अंटी 575.3 ⇨  
अटेरन 562.13  
ग्रंथि 572 1  
घुंठी 977.5  
टेंट 672.6  
फेंट 586.30  
मित्रता विस्थापना 705 16  
वैमनस्य 706 10  
**अंटी करना**  
घृत कपट करना 481 22  
**अंटीगर**  
कपटी घृतकर 481 11

**अंटीगरी**  
घृत कपट 481.6  
**अंटीबाज़**  
कपटी घृतकर 481.11  
कम तीलने वाला 962.4  
छली 827.24  
**अंटीबाज़ी**  
घृत कपट 481.6  
**अंटीमार**  
कपटी घृतकर 481 11  
**अंटी मारना**  
कम तीलना 962.64  
घृत कपट करना 481 22  
**अंटीतल**  
अंटीतल 555.26 ⇨  
**अंठली**  
गुठली 112.3  
नवोका स्तन 146 8  
बीज 112.1  
**अंठी**  
गुठली 112.3  
ग्रंथि 572.1  
घुंठी 977.5  
बीज 112 1  
**अंठुली**  
गुठली 112 3  
बीज 112 1  
**अंठ**  
अंडा 242 1  
अंडाकार पिंड 976 7  
डिबाणु 130 7  
परमाणु 78 10  
शिव 767 1  
**अंठ कटाह**  
अंडा शल्क 116 7  
ब्रह्मांड 1 1  
**अंठ कवच**  
अंडा शल्क 116.7  
**अंठकोश**  
अंडकोश 152.11 ⇨  
कपुरे 206.28  
**अंठखोल**  
अंडा: शल्क 116 7  
**अंठज**  
अंठज 243.14 ⇨  
पक्षी 126.1  
सर्प 123.10  
**अंठजा**  
कस्तूरी 274.15  
मावा पक्षी 126.2  
**अंठजोश्वर**  
गरुड 777.15  
**अंठधर**  
शिव 767 1  
**अंठपीत**  
अंडा: जर्दी 206.5  
**अंठबंड**  
असंख्यत: 944 13

असंगत 439.5  
गाली 433.3  
बकवासपूर्ण 428.25  
विविध सामग्री 669 4  
**अंडमान निकोबार**  
अंडमान निकोबार 28.7 ⇨  
अंडमान निकोबार द्वीप समूह  
अंडमान निकोबार 28.7  
अंडमान निकोबार: राजधानी  
अंडमान निकोबार: राजधानी 28.8 ⇨  
**अंडयुक्त**  
अनंदाकर्षित 238.14  
**अंडरग्राउंड रेलवे (अँ)**  
भूमिगत रेलगाड़ी 1071.68  
**अंडरग्राउंड होना**  
भूमिगत होना 824.16  
**अंडरण**  
अंडरण 118.6 ⇨  
आबीजन 118.5  
**अंडरना**  
अंडरना 118.12 ⇨  
**अंडरलाइन करना**  
अधोरेखांकित करना 968.37  
**अंडरबीअर (अँ)**  
अतपरिधान 587.1  
**अंडरस्टैंडिंग (अँ)**  
सहमति 337.3  
**अंडवृत्त**  
अंडवृत्त 972.2 ⇨  
**अंडश्वेत**  
अंडा सफ़ेदी 206.6  
**अंडस**  
विघ्न 1047.12  
**अंडसना**  
सकट में पड़ना 909.11  
**अंडा**  
अंडा 242.1 ⇨  
अंडाकार पिंड 976.7  
आरंभिक अवस्था सूची 994.23  
शून्य: उपमान सूची 948.15  
**अंडा (दे.)**  
खाद्य अंडा 206.2  
**अंडाकर्षण**  
अंडाकर्षण 238.9 ⇨  
अंडाकर्षण करना  
अंडाकर्षण करना 238.11 ⇨  
**अंडाकर्षित**  
अंडाकर्षित 238.19 ⇨  
**अंडाकर्षित पशु**  
अंडाकर्षित पशु 238.10 ⇨  
**अंडाकार**  
अंडाकार 976.19 ⇨  
**अंडाकार पिंड**  
अंडाकार पिंड 976.7 ⇨  
**अंडाकार भू मानचित्र**  
पृथ्वी. अंडाकार मानचित्र 10.18  
**अंडाकार वृत्त**  
अंडवृत्त 972.2

## अंडाकृति

### अंडाकृति

अडाकार पिंड 976 7  
**अंडा:** छिलका  
 अडा शल्क 116 7  
**अंडा:** जर्दी  
 अडा जर्दी 206 5 ⇨  
**अंडाद**  
 अडाहारी 205 5  
**अंडा:** भुरजी  
 अडा भुरजी 206 8 ⇨  
**अंडा-मैदा:** मीठी आमलेट  
 पेनकेक 206 10  
**अंडालु**  
 गर्भवती (मछली) 241 17  
 मछली 125 1  
**अंडाशाय**  
 डिबाशाय 152 16  
 डिबिद 132 12  
**अंडा:** शल्क  
 अडा शल्क 116 7 ⇨  
**अंडाशी**  
 अडाहारी 205 5  
**अंडा:** सफेदी  
 अडा सफेदी 206 6 ⇨  
**अंडाहारी**  
 अडाहारी 205 5 ⇨  
**अंडिद**  
 डिबिद 132 12  
**अंडिया**  
 अटेरन 562 13  
 अनडाकर्षित 238 14  
**अंडी**  
 एरड 196 16  
 रेशमी चादर 585 12  
**अंडीर**  
 युवक 231 8  
 वीर पुरुष 396 2  
**अंडुआ**  
 अनडाकर्षित 238 14  
 स्फूर्तिहीन 492 14  
**अंडुआना**  
 अडाकर्षण करना 238 11  
**अंडुआ बेल**  
 सॉड 127 12  
**अंडे बच्चे**  
 सतान समष्टि 718 2  
**अंडेल**  
 गर्भवती (पक्षी) 241 15  
 गर्भवती (पशु) 241 16  
**अंत:**  
 आंतरिक 999 12  
 आत्मा 783.1  
**अंतःकरण**  
 अंतरात्मा 351.4  
 मन 351.2  
**अंतःकरण:** आदेश  
 अतरात्मा: आदेश 351.5

**अंतःकरण में झोंकना**  
 आत्मनिरीक्षण करना 284 46  
**अंतःकरणीय**  
 मानसिक 351 8  
**अंतःगृह**  
 मन 351 2  
**अंतःग्रहीत**  
 अतग्रहीत 1002 27  
**अंतःपटी**  
 प्रकृति चित्र 404 4  
**अंतः परिधि**  
 परिधि अतर्गत स्थान 972 5  
**अंतःपाल**  
 अतपुर पहरेदार 908 11  
**अंतःपुर**  
 जनानखाना 614 20  
 शयन कक्ष 614 21  
**अंतःपुर दास**  
 अतपुर दास 651 9 ⇨  
**अंतःपुर दासी**  
 अतपुर दासी 651 11 ⇨  
**अंतःपुर: पहरेदार**  
 अतपुर पहरेदार 908 11 ⇨  
**अंतःपुर वास**  
 परदानश्रीनी 591 1  
**अंतःपुर वासिनी**  
 अतपुर वासिनी 591 11 ⇨  
**अंतःपुरिक**  
 अतपुर पहरेदार 908 11  
**अंतःपुरिका**  
 अतपुर वासिनी 591 11  
**अंतःपुरुष**  
 मन 351 2  
**अंतःप्रकृति**  
 आत्मा 763 1  
 स्वभाव 836 4  
**अंतः प्रजनन**  
 अत प्रजनन 243 4 ⇨  
**अंतःप्रज्ञा**  
 आत्मज्ञान 761 4  
**अंतःप्रविष्ट**  
 प्रविष्टित 1094 25  
**अंतःप्राकृतिक**  
 स्याभायिक 836 11  
**अंतःप्रेरणा**  
 अतरात्मा आदेश 351 5  
 इड 352 4  
**अंतःप्रेरित**  
 प्रेरणाजन्य 499.7  
**अंतः बाह्यता**  
 आतरिकता बाह्यता 999 1  
**अंतःभूत**  
 आतरिक 999 12  
**अंतःभूतता**  
 अतस्थता 999 3  
**अंतःभूमि**  
 अंतर्भंत्र 34.2

**अंतःभूमि**  
 भूगर्भस्थ 9 22  
**अंतःशक्ति**  
 मनोबल 394 4  
**अंतःश्वसन**  
 श्वास ग्रहण 245 5  
**अंतःसलिल**  
 भूमिगत जलधारा 21 16  
**अंतःस्थ**  
 आतरिक 999 12  
**अंतःस्थ चिंतक**  
 ध्यानी 331 12  
**अंतःस्थ चिंतन**  
 ध्यान 331 1  
**अंतःस्थता**  
 अतस्थता 999 3  
**अंतःस्थिति**  
 अतस्थता 999 3  
**अंतःस्वयण**  
 अयशोषण 1002 10  
**अंत**  
 अत 995 1 ⇨  
 अतिम 995 11  
 अत्यधिक 944 7  
 असीम सख्या 949 6  
 उपसहार 466 18  
 कार्य समाप्ति 522 1  
 चरम सीमा 1001 5  
 छोर 1000 3  
 नाटक फलागम 466 16  
 नाश 531 1  
 परिणाम 510 1  
 प्रलय 530 1  
 भरत वाक्य 465 6  
 मृत्यु 249 1  
 यवनिका पात 606 3  
 विवाद समाधान 877 4  
 समाधान 334 6  
 सीमा 1001 1  
**-अंत (जैसे: अकारांत)**  
 अतयुक्त 995 10  
**अंत आना**  
 अत होना 995 7  
**अंतक**  
 ईश्वर 764 1  
 काल 36 1  
 नाशक 531 8  
 मृत्युकारी 249 24  
 यमराज 256.1  
 शिव 767 1  
**अंत करना**  
 अत करना 995.8 ⇨  
 प्रलय करना 530.7  
**अंत कर्ता**  
 नाशक 531 8  
**अंतकारी**  
 कार्य समापक 522.5  
 नाशक 531.8

मृत्युकारी 249 24  
**अंत काल**  
 मृत्यु 249 1  
 मृत्यु काल 249 10  
**अंतग**  
 पारगत 1097 15  
**अंतगत**  
 अतगत 995 12 ⇨  
 मृत 249 23  
**अंतगामी**  
 पारगत 1097 15  
**अंतघाती**  
 छली 827 24  
**अंतङ्गी**  
 आत्र 152 2  
 तौत 569 5  
**अंततः**  
 अतत 995 17 ⇨  
 कालांतर मे 60 16  
**अंत तक**  
 अतत 995 17  
**अंततोगत्या**  
 अतत 995 17  
 यिवशत 901 13  
**अंत नक्षत्र**  
 ब्लेक होल 3 5  
**अंत नहीं है**  
 नेति 741 26  
**अंत पाना**  
 रहस्य जानना 822 15  
**अंतपाल**  
 सीमा रक्षक 908 28  
**अंतभूत**  
 समाधिष्ट 1002 21  
**अंत में**  
 अतत 995 17  
**अंत में**  
 छोर पर 1000 16  
**अंतयुक्त**  
 अतयुक्त 995 10 ⇨  
**अंतरंग**  
 अतरिंद्रिय 268 4  
 आंतरिक 999 12  
 घनिष्ठ 704 27  
 घनिष्ठ मित्र 704 14  
 निकटस्थ 31 7  
 पारियारिक 726 13  
**अंतरंग कक्ष**  
 अंतरंग कक्ष 614 18 ⇨  
**अंतरंगता**  
 आतरिकता 999.2  
 घनिष्ठता 704 13  
 घनिष्ठता 704 13  
 पारियारिकता 726.2  
**अंतरंग मित्र**  
 घनिष्ठ मित्र 704 14  
**अंतरंग रहस्य ज्ञाता**  
 अंतरंग रहस्य ज्ञाता 822.24 ⇨

**अंतरंग संबंध**  
घनिष्ठ संबंध 715 4  
**अंतरंग सचिव**  
निजी सचिव 652 24  
**अंतरंग सभा**  
कार्य समिति 692 22  
**अंतरंग से**  
मनत 351.9  
**अंतरंगहीनता**  
अधनिष्ठता 697 6  
**अंतरंग होना**  
घनिष्ठ होना 704 18  
**अंतरंगी**  
घनिष्ठ मित्र 704 14  
**अंतर**  
अंतराल 33 9  
अदर 999 17  
असमकक्षता 851 2  
असादृश्य 310 1  
असामंजस्य 701 3  
असामान्यता 312 1  
आंतरिक 999 12  
कोटि 936 1  
गोपन 824 1  
घटान फल 954 9  
दूरी माप 959 19  
परजन भावना 725 4  
मन 351 2  
सीमातर्गत स्थान 1001 23  
हृदय 146 5  
**अंतर काल**  
कालांतराल 60 4  
**अंतर क्षेत्र**  
सीमेतर क्षेत्र 34 5  
**अंतरग्नि**  
पाचन शक्ति 178 2  
**अंतरग्रह राकेट**  
अंतरग्रह राकेट 1075.7 ⇨  
**अंतर चक्र**  
अंतरचक्र कोण 970.8  
चक्र बत्तीसवीं भाग 960 9  
दिशा मंडल 29 21  
पक्षी बोली विचार 262 9  
स्वजन 725 1  
**अंतरचक्र कोण**  
अंतरचक्र कोण 970.8 ⇨  
**अंतर जातीय**  
अंतर जातीय 730.22 ⇨  
**अंतर जातीयता**  
अंतर जातीयता 730 5 ⇨  
**अंतरण**  
अतर्ग्रहण 1002 5  
घयन 1009.2  
स्वत्व अंतरण 622 16  
**अंतरतम**  
आंतरिकतम 999.13  
घनिष्ठ 704.27

**अतरदेशीय**  
अतरराष्ट्रीय 35.8  
**अंतर निकालना**  
घटान करना 954 12  
**अंतर पट**  
बीघ का परदा 605 7  
**अंतर पुरुष**  
आत्मा 763 1  
ईश्वर 764 1  
**अंतर प्रदर्शन**  
विशेषण 425 11  
**अंतरप्रदेश स्तरीय**  
अंतरप्रदेश स्तरीय 35 5 ⇨  
**अंतरप्रदेशीय**  
अंतरप्रदेश स्तरीय 35 5  
**अंतरप्रभव**  
वर्ण सकर 731 40  
**अंतरप्रांतीय**  
अंतरप्रदेश स्तरीय 35 5  
**अंतरप्रादेशिक**  
अंतरप्रदेश स्तरीय 35 5  
**अंतर माप**  
दूरी माप 959 19  
**अंतरयण**  
असमकक्षता 1022 1  
तीर्थ अतर्गृही 1089 3  
तीर्थ परिक्रमा 1089 4  
**अंतरयन**  
तीर्थ अतर्गृही 1089 3  
**अंतरयुक्त**  
असदृश 310 6  
**अंतरराज्यीय**  
अंतरप्रदेश स्तरीय 35 5  
**अंतरराष्ट्रीय**  
अतरराष्ट्रीय 35 8  
**अंतरराष्ट्रीय**  
अतरराष्ट्रीय 35.8 ⇨  
**अंतरराष्ट्रीय अंक**  
अतरराष्ट्रीय अंक 948 5 ⇨  
**अंतरराष्ट्रीय अंक (1, 2, 3...)**  
अतरराष्ट्रीय अंक 948 5  
**अंतरराष्ट्रीय कंपनी**  
अतरराष्ट्रीय कंपनी 692.6 ⇨  
**अंतरशाथी**  
आत्मा 763 1  
**अंतरस्थ**  
आंतरिक 999 12  
**अंतरस्थायी**  
आत्मा 763 1  
**अंतरस्थित**  
आंतरिक 999 12  
**अंतरहीन**  
सटा [सटी] 31 8  
समान 309.22  
**अंतरहीनता**  
निकटता 31 1  
सटापन 31.2  
समानता 309 5

**अंतर होना**  
असादृश्य होना 310 4  
विपरीत होना 310 5  
**अंतरा**  
अदाजन 947 28  
अतिरिक्त 945 4  
**अंतरा**  
अनुपस्थिति 1022 2  
**अंतरा**  
एकातरा 71 15  
कभी कभी 36 25  
**अंतरा**  
कोण 970 1  
**अंतरा**  
गीत अतरा 451 22  
**अंतरा**  
छिछला गड़दा 15 3  
**अंतराकाश**  
ब्रह्म 764 24  
**अंतराकूत**  
गुप्त अर्थ 426 9  
**अंतरागत**  
प्रविष्ट 1094 24  
**अंतरागम**  
प्रवेश 1094 1  
**अंतरागमन**  
प्रवेशन 1094 3  
**अंतरात्मा**  
अतरात्मा 351 4 ⇨  
आत्मा 763 1  
मन 351 2  
**अंतरात्मा: आदेश**  
अतरात्मा आदेश 351 5 ⇨  
**अंतरात्मीय**  
मानसिक 351 8  
**अंतराधान**  
अतर्ग्रहण 1002 5  
**अंतराना**  
छोटना 1009 15  
**अंतरानुभूति**  
अतर्जन 761 3  
**अंतराबंध**  
मनोभाजन 353 12  
**अंतरा भवदेह**  
मृगु पुर्जन के बीच स्थित आत्मा 763 3  
**अंतराभिमुखता**  
अतराभिमुखता 838.6 ⇨  
**अंतराभिमुखी**  
अतराभिमुखी 838.14 ⇨  
**अंतराय**  
ध्यान विघ्न 331.5  
ध्यानहीनता 331 3  
**अंतरायण**  
नजरक्रेद 868.9  
**अंतरायन**  
तीर्थ अतर्गृही 1089 3  
**अंतराल**  
अंतराल 33 9 ⇨

अतरिम काल 60.3  
कार्य अंतराल 494 4  
कालांतराल 60 4  
दूरता 32 1  
नियत काल 39 1  
विस्तार 981 2  
शून्य स्थान 33 4  
स्थान 33 1  
**अंतराल काल मे**  
अवधि मे 39 11  
**अंतराल कालीन**  
अतरिम कालीन 60 12  
**अंतरालन**  
विलग्नन 1011 1  
**अंतराल राज्य**  
मध्यवर्ती राज्य 881 7  
**अंतरालवर्ती**  
अतरिम कालीन 60 12  
**अंतरालहीन**  
सटा [सटी] 31 8  
**अंतरालहीनता**  
सटापन 31 2  
**अंतरालीय**  
अतरिम कालीन 60 12  
**अंतरावधि**  
कार्य अंतराल 494 4  
**अंतरावास**  
अतरावास 616 5 ⇨  
**अंतरावासी**  
अतरावासी 616 16 ⇨  
**अंतराविष्ट**  
प्रविष्टित 1094 25  
समाविष्ट 1002 21  
**अंतरावेदी**  
स्तभ मंडप 600 13  
स्तभालिप 610 9  
**अंतरावेश**  
समावेश 1002 1  
**अंतरिंद्रिय**  
अतरिंद्रिय 268 4 ⇨  
**अंतरिंद्रिय (दे.)**  
मन 351 2  
**अंतरिंद्रिय**  
मानसिक 351 8  
**अंतरिका**  
गलियारा 615 8  
गली 1063 49  
छोटी सड़क 1063 36  
**अंतरिक्ष**  
अतरिक्ष 2.3 ⇨  
भुय 773 39  
**अंतरिक्ष (मध्यवर्ती आकाश)**  
ब्रह्मा: चरण सूची 766.3  
**अंतरिक्ष गमन**  
अतरिक्ष गमन 1081.42 ⇨  
**अंतरिक्ष गमन करना**  
अतरिक्ष गमन करना 1081.49 ⇨

## अंतरिक्ष गामी

अंतरिक्ष गामी	अंतरिम कालीन	अंतरग्रहण कर्ता	अंतर्धान
अंतरिक्ष गामी 1081.54 ⇨	अंतरिम कालीन 60.12 ⇨	अंतर्ग्राही 1002.28	अनुपलब्धता 942.4
अंतरिक्षावर	अंतरिमता	अंतर्ग्रहीत	असमक्ष 1022.6
अंतरिक्ष गामी 1081.54	स्थानापन्नता 653 20	अंतर्ग्रहीत 1002.27 ⇨	घू मंतर कृत 474.39
अंतरिक्ष जल	अंतरीक्षक	अंतर्ग्राही	विलुप्त 824.24
ओस 90.11	इनविजिलेटर 322.38	अंतर्ग्राही 1002.28 ⇨	विलोप 824.7
अंतरिक्ष: देवता	अंतरीक्षण	अंतर्घट	अंतर्धान
इंद्र 773 5	इनविजिलेशन 322 18	मन 351.2	घू मंतर: कर्म 474.15
अंतरिक्ष पत्तन	अंतरीप	अंतर्धक	अंतर्ध्वंस
अंतरिक्ष पत्तन 1069.22 ⇨	अतरीप 26.10 ⇨	दिशा मंडल 29.21	तोड़फोड़ 539.4
अंतरिक्ष मंडल	अंतरीप	अंतर्धित्र	अंतर्ध्वंसी
खगोल 1 2	अंतर्परिधान 587.1	मध्यक 1002.9	तोड़फोड़ कर्ता 539 19
अंतरिक्ष: माता	कटि परिधान 586 1	अंतर्धित्र (प्र)	अंतर्नगर
देवसेना 774 47	धोती 586.15	ऐकसर फ़ोटो 171 7	अंदरकोट 620 9
अंतरिक्ष मार्ग	घस्त्रीय 579 24	अंतर्ध्वंस	अंतर्निरीक्षण
अंतरिक्ष मार्ग 1066 3 ⇨	साया 587 13	अवधेतना 263.5	अंतर्परीक्षण 284.27
अंतरिक्ष यात्रा	अंतरे	अंतर्जठर	अंतर्निधिष्ट
अंतरिक्ष यात्रा 1087 23 ⇨	निकट में 31.9	उदर 148.6	समाधिष्ट 1002.21
अंतरिक्ष यात्रा विषयक	अंतरीटा	अंतर्जरायु	अंतर्निहित
अंतरिक्ष यात्रीय 1087 38	अंतर्घट 800.2	जरायु 152.15	आंतरिक 999.12
अंतरिक्ष यात्री	अंतर्परिधान 587 1	अंतर्जातीय	अंतर्दिष्ट 1094.25
अंतरिक्ष यात्री 1087.24 ⇨	अस्तर 580 1	अंतर जातीय 730.22	अंतर्निहित अर्थ
अंतरिक्ष यात्रीय	पेटीकोट 587.12	अंतर्ज्ञान	अंतर्निहित अर्थ 426.8 ⇨
अंतरिक्ष यात्रीय 1087.38 ⇨	साया 587.13	अंतर्ज्ञान 761 3 ⇨	अंतर्घट
अंतरिक्ष यान	अंतर्-	संज्ञ 301.3	अंतर्घट 800.2 ⇨
अंतरिक्ष यान 1075.6 ⇨	सीमातर्गत स्थान 1001 23	अंतर्ज्ञानी	बीघ का परदा 605 7
अंतरिक्ष यान मार्ग	अंतर्काट	अंतर्ज्ञानी 761.26 ⇨	अंतर्घ्न
अंतरिक्ष मार्ग 1066 3	आडी काट 543.3	अंतर्ज्वाला	अंतर्घ्न 1002.7 ⇨
अंतरिक्ष युग	अंतर्क्षिप्त	मनोव्यथा 391 7	अंतर्घ्नित करना
आधुनिक काल 76 9	अंतर्क्षिप्त 1002.26 ⇨	अंतर्लम	अंतर्घ्नित करना 1002.19 ⇨
अंतरिक्ष युद्ध	अंतर्क्षिप्त अंश	आंतरिकतम 999 13	अंतर्परिधान
अंतरिक्ष युद्ध 905.14 ⇨	प्रक्षिप्त पाठ 412 35	अंतर्लम कक्ष	अंतर्परिधान 587.1 ⇨
अंतरिक्ष विचरण	अंतर्क्षिप्त करना 1002.18 ⇨	गर्भगृह 745.44	अंतर्परीक्षण
यानेतर कार्य 1081 43	अंतर्क्षेत्र	अंतर्लम मन	अंतर्परीक्षण 284 27 ⇨
अंतरिक्षीय	अंतर्क्षेत्र 34 2 ⇨	मन 351.2	अंतर्पुरुष
अंतरिक्ष गामी 1081 54	अंतर्क्षेपण	अंतर्दर्शन	मन 351 2
अंतरिक्ष यात्रीय 1087 38	अंतर्क्षेपण 1002 6 ⇨	आत्मनिरीक्षण 284 28	अंतर्पूरण
अंतरिक्षीय 2.8 ⇨	अंतर्गत	अंतर्दर्शी	भराई 1004 1
आकाशीय 2 7	आयोजन मे 655 25	आत्मनिरीक्षक 284 29	अंतर्ग्रन्थपन
अंतरिक्षीय एकक	पराधीन 901 8	अंतर्दर्शि	प्रविष्टायन 1094.4
अंतरिक्षीय एकक 959.29 ⇨	पराधीनत 901 12	बुद्धि 301 1	अंतर्बाधक
अंतरिक्षीय दूरी माप	प्रविष्ट 1094 24	अंतर्दिशा	अवरोधक 1047.28
अंतरिक्षीय दूरी माप 959.28 ⇨	समाधिष्ट 1002 21	उपदिशा 29 13	अंतर्बाध
अंतरित	अंतर्गम	अंतर्दीप्ति	अंतर्ज्ञान 761 3
असमक्ष 1022 6	प्रवेश 1094 1	अंतरध्वंशता 285.34	अंतर्द्वन्द्व
आंतरिक 999.12	अंतर्गमन	अंतर्दुग	मन 351.2
आच्छादित 592 13	प्रवेशन 1094.3	अंदरकोट 620.9	अंतर्भाग
विलुप्त 824 24	सिकुबन 980 10	अंतर्दुष्टा	अंतर्भाग 999.4 ⇨
सिकुबा [सिकुडी] 980 28	अंतर्गृही	आत्मनिरीक्षक 284.29	अंतर्भाव
अंतरितला	तीर्थ अंतर्गृही 1089 3	अंतर्दुष्टि	अंतर्निहित अर्थ 426.8
अंतस्थता 999 3	अंतर्गृह	ज्ञान चक्षु 305.2	विलुप्त 824.24
अंतरित फल	अवधेतन मन 352.3	अंतर्दृश	समावेश 1002.1
घटान फल 954.9	जनानस्थाना 614.20	सीमातर्गत प्रदेश 1001.22	सहभाषना 352.15
अंतरिम	अंतर्गृहीय	अंतर्दृशीय	अंतर्भावना
अंतरिम कालीन 60.12	मानसिक 351 8	देश स्तरीय 35.6	ध्यान 331.1
स्थानापन्न 653.38	अंतर्ग्रहण	अंतर्द्वंद्व	अंतर्धृत
अंतरिम काल	अंतर्ग्रहण 1002.5 ⇨	दुषिधा 501 1	अंतर्धृत
अंतरिम काल 60.3 ⇨			गुप्त 824.20
			प्राण तत्त्व 245.1



- समाधिष्ट 1002.21  
**अंतर्भूमि**  
*अंतर्भूमि* 999.5 ⇨  
 भूगर्भ 9 6  
**अंतर्भूमि**  
 भूगर्भस्थ 9.22  
**अंतर्मनस्क**  
 अंतराभिमुखी 838 14  
**अंतर्मनस्कता**  
 अंतराभिमुखता 838.6  
**अंतर्भाग**  
 प्रवेश मार्ग 1094 6  
**अंतर्मुखता**  
 अंतराभिमुखता 838 6  
**अंतर्मुखी**  
 अंतराभिमुखी 838 14  
 केंद्राभिमुख 1023.11  
**अंतर्मुखी व्यक्तित्व**  
 अंतराभिमुखता 838 6  
**अंतर्ग्राम**  
 अजपा जप 749 5  
**अंतर्ग्रामी**  
*अंतर्ग्रामी* 761 27 ⇨  
 आत्मा 763 1  
 ईश्वर 764 1  
**अंतर्योग**  
 ध्यान 331 1  
 साधारणीकरण 352.14  
**अंतर्राष्ट्रीय**  
 अंतरराष्ट्रीय 35 8  
**अंतर्राष्ट्रीयता वाद**  
*अंतर्राष्ट्रीयता वाद* 884 28 ⇨  
**अंतर्लंब**  
 लंब रेखा 968 34  
**अंतर्लीन**  
 अंतराभिमुखी 838 14  
 तल्लीन 331 14  
**अंतर्लीनता**  
 अंतराभिमुखता 838 6  
 तल्लीनता 331.6  
**अंतर्वेश प्रजनन**  
 अंतः प्रजनन 243 4  
**अंतर्वर्तिता**  
 अंतर्स्थाता 999 3  
**अंतर्वर्ती**  
 आंतरिक 999.12  
 मध्यवर्ती 996.7  
**अंतर्वस्तु**  
 विषय सूची 447 7  
**अंतर्वाची**  
 सहायक सूत्रधार 468 15  
**अंतर्वाचन**  
 नजरकौद 868.9  
**अंतर्व्यिकार**  
 भाव 358.1  
**अंतर्विरोध**  
 गृहयुद्ध 905.18  
**अंतर्बाग**  
 धिंता 377.2  
**अंतर्वेद**  
 उत्तर भारत 28 3  
**अंतर्वेदाना**  
 मनोव्यथा 391 7  
**अंतर्वेधक**  
*अंतर्वेधक* 271 21 ⇨  
 हृदय भजक 391 34  
**अंतर्वेधन**  
*अंतर्वेधन* 271 1 ⇨  
**अंतर्वेधित**  
*अंतर्वेधित* 271 22 ⇨  
**अंतर्वेधित छिद्र**  
*अंतर्वेधित छिद्र* 271.2 ⇨  
**अंतर्वेशन**  
 अंतर्क्षेपण 1002.6  
**अंतर्व्याप्त**  
 पैठा [पैठी] 1094 30  
**अंतर्व्याप्त होना**  
 पैठना 1094 23  
**अंतर्व्याप्ति**  
 पैठ 1094 14  
**अंतर्व्याप्ति (दे. पैठ)**  
 व्याप्ति 981 5  
**अंतर्व्याप्त**  
*अंतर्व्याप्त* 972 13 ⇨  
**अंतर्स्थाता**  
*अंतर्स्थाता* 999.3 ⇨  
**अंतर्स्थान**  
 अभ्यंतर 985 13  
 आंतरिक स्थान 33.5  
 सीमातर्गत स्थान 1001.23  
**अंतर्स्थापन**  
 प्रविष्टायन 1094 4  
**अंतर्स्थापना**  
 प्रविष्टायन 1094 4  
**अंतर्स्थापित**  
 प्रविष्टित 1094.25  
**अंतर्स्थापित करना**  
 प्रविष्ट करना 1094 19  
**अंतर्हास**  
 मुस्कराहट 384.5  
**अंतर्हित**  
 विलुप्त 824 24  
 विद्यक्षित 426 32  
**अंत लेना**  
 रहस्य जानना 822.15  
**अंतर्गत**  
 नश्वर 38 7  
**अंतवत्ता**  
 नश्वरता 38.2  
**अंतवर्ण**  
 शूद्र 731.28  
**अंतवृत्ति**  
 प्रलयगति 106 3  
**अंतवासिनी**  
 चांडालनी 254.11  
**अंतवासी**  
 चांडाल 254 10  
**अंतराध्या**  
 अरधी 254 4  
 धिता 254.12  
 श्मशान 254 9  
**अंतराचंद्रता**  
*अंतराचंद्रता* 285 34 ⇨  
**अंतराक्षेपना**  
 अंतरात्मा आदेश 351.5  
**अंतराक्ष**  
 हृदय 146 5  
**अंत समय**  
 मृत्यु काल 249.10  
**अंत समय आना**  
 जर्जर वृद्ध होना 232 8  
**अंतसर्ग**  
 प्रत्यय 425 19  
**अंत सूचना**  
 अध्याय समापन सूचना 447 5  
**अंत से आरंभ क्रम**  
 अवरोह क्रम 991 4  
**अंतस्तप्त**  
 मनोव्यथित 391 26  
**अंतस्तल**  
 हृदय 146 5  
**अंतस्ताप**  
 मनोव्यथा 391 7  
**अंतस्थ**  
 अंतस्थ वर्ण 411 12  
 आंतरिक 999 12  
 छोरस्थ 1000 15  
**अंतस्थ राज्य**  
 मध्यवर्ती राज्य 881 7  
**अंतस्थ वर्ण**  
*अंतस्थ वर्ण* 411 12 ⇨  
**अंतस्खलिल**  
 भूमिगत जलधारा 21 16  
**अंतस्खलिला**  
 सरस्यती 20.24  
**अंतस्सार**  
 ठोसपन 269.8  
 मन 351 2  
 शारीरिक बल 160 2  
 सार 84.16  
**अंतहीन**  
 अनश्वर 37 9  
 असमाप्य 943.12  
 असीम 1001.34  
**अंतहीन तर्क**  
*अंतहीन तर्क* 325.5 ⇨  
**अंतहीनता**  
 अनश्वरता 37.3  
 असमाप्यता 943.4  
 असीमता 1001.3  
**अंत होना**  
*अंत होना* 995.7 ⇨  
**अंताक्षर**  
 शब्दः अंतिम अक्षर 410 4  
**अंताक्षरी**  
*अंताक्षरी* 694 11 ⇨  
**अंतावशायी** [अंतावशायिनी]  
 निम्न वर्णीय 731.33  
**अंतावसायी** [अंतावसायिनी]  
 निम्न वर्णीय 731.33  
**अंति** (नाटक)  
 बड़ी बहन 723.10  
**अंतिक**  
 निकटस्थ 31 7  
**अंतिका**  
 अंगीठी 109.5  
 चुल्हा 109 6  
**अंतिम**  
*अंतिम* 995.11 ⇨  
 अंतिम स्थानीय 707.14  
 छोरस्थ 1000 15  
 विदा विषयक 1058.6  
**अंतिम अक्षर क्रम**  
 अकारांत क्रम 991 6  
**अंतिम अर्ध**  
 उत्तरार्ध 447 12  
**अंतिम अवसर**  
*अंतिम अवसर* 70.7 ⇨  
**अंतिम अवस्था**  
*अंतिम अवस्था* 995.3 ⇨  
**अंतिम उपदेश**  
*अंतिम उपदेश* 739.14 ⇨  
**अंतिम करना**  
 अंत करना 995 8  
**अंतिम घड़ी**  
 अंतिम अवसर 70.7  
**अंतिम चांद्र मास**  
 फाल्गुन 43 18  
**अंतिम चेतावनी**  
*अंतिम चेतावनी* 917.3 ⇨  
**अंतिम छंद**  
 गीत अंतिम भाग 451 25  
**अंतिम छोर**  
*अंतिम छोर* 1000 5 ⇨  
**अंतिमत्व**  
 नितात अंतिम 995.15  
**अंतिम तीर्थकर**  
 महावीर 792 4  
**अंतिम दम तक**  
 आयु पर्यंत 229.28  
**अंतिम दिन**  
*अंतिम दिन* 39 4 ⇨  
**अंतिम पांचाल**  
 धृष्टयुज 771.66  
**अंतिम पुरुष**  
 अंतिम वंशज 727.25  
**अंतिम भोज**  
 कम्पूनिशन 751.20  
**अंतिम यात्रा**  
 मृत्यु 249.1

## अंतिम वंशज

**अंतिम वंशज**  
*अंतिम वंशज 727.25 ⇨*  
**अंतिम वर्णः स्वर सामंजस्य**  
 तुक 452.49  
**अंतिम शय्या**  
 मृत्यु शय्या 249.11  
**अंतिम संस्कार**  
 मृतक संस्कार 253.1  
**अंतिम संस्कार कर्ता ब्राह्मण**  
*अंतिम संस्कार कर्ता ब्राह्मण 731.15 ⇨*  
**अंतिम सत्य**  
 परम सत्य 820.3  
**अंतिम सत्य (ईसाई)**  
 शब्द ब्रह्म 764.30  
**अंतिम समय**  
 अंतिम अवसर 70.7  
**अंतिम समाधि**  
 आत्मबलि 754.3  
**अंतिम साया**  
*अंतिम साया 799.36 ⇨*  
**अंतिम सीमा**  
 चरम सीमा 1001.5  
 सीमात 1001.19  
**अंतिम सै पहला**  
 उपांतिम 995.14  
**अंतिम स्थानीय**  
*अंतिम स्थानीय 707.14 ⇨*  
**अंतिम स्नान**  
 मृतक स्नान 253.3  
**अंतिम स्वर**  
 न्यास स्वर 459.20  
**अंतिमांक**  
 नौ 948.33  
**अंतिमाक्षर**  
 शब्दः अंतिम अक्षर 410.4  
**अंतिमैत्यम्**  
 अंतिम घेतावनी 917.3  
**अंतैनिवास**  
 अंतरावास 616.5  
**अंतैवास**  
 अंतरावास 616.5  
**अंतैवासी**  
 अंतरावासी 616.16  
 गुरुकुल वासी 616.17  
 छात्रावासी 321.40  
**अंत्य**  
 अंतिम 995.11  
 अंतिम साया 799.36  
 छोरस्थ 1000.15  
 शूद्र 731.28  
**अंत्य आश्रम**  
 संन्यास आश्रम 233.6  
**अंत्यज**  
 चांडाल 254.10  
 शूद्र 731.28  
**अंत्यजा**  
 चांडालनी 254.11  
 शूद्र स्त्री 731.29

**अंत्यपद**  
 वर्गमूल 955.11  
 वर्गः सब से बड़ा मूल 955.12  
**अंत्यमूल**  
 वर्गमूल 955.11  
 वर्गः सब से बड़ा मूल 955.12  
**अंत्ययुग**  
 कलियुग 40.15  
**अंत्य वर्ण**  
 शूद्र 731.28  
**अंत्या**  
 शूद्र स्त्री 731.29  
**अंत्याकार क्रम**  
 अकारात क्रम 991.6  
**अंत्याक्षर**  
 शब्द अंतिम अक्षर 410.4  
**अंत्याक्षरी**  
 अताक्षरी 694.11  
**अंत्यानुप्रास**  
 तुक 452.49  
**अंत्यावसायी [अंत्यावसायिनी]**  
 निम्न वर्णीय 731.33  
**अंत्याश्रम**  
 संन्यास आश्रम 233.6  
**अंत्याश्रमी**  
 संन्यासी 790.11  
**अंत्येष्टि**  
 मृतक संस्कार 253.1  
 सोलह संस्कार सूची 798.3  
**अंत्येष्टि संस्कार**  
 मृतक संस्कार 253.1  
**अंत्र**  
 आत्रीय 152.17  
**अंधज**  
 सांध्य आहार 199.4  
**अंदर**  
*अंदर 999.17 ⇨*  
 गहरे 984.11  
 निम्नतः 983.6  
 प्रदेश मार्ग 1094.6  
 प्रदेश संकेत सूची 1094.31  
 मन 351.2  
 सीमांतर्गत स्थान 1001.23  
**अंदर अंदर**  
*अंदर अंदर 999.18 ⇨*  
**अंदर आए बाौर**  
 बाहर बाहर 999.20  
**अंदर आना**  
 प्रदेश करना 1094.17  
**अंदर आना बना होना**  
 प्रदेश निषेध होना 1094.21  
**अंदर करना**  
 घोपना 270.14  
**अंदर का रास्ता**  
 प्रदेश द्वार 808.3  
 प्रदेश मार्ग 1094.6  
**अंदरकोट**  
*अंदरकोट 620.9 ⇨*

**अंदरखाने**  
 अंदर अंदर 999.18  
 गुप्ततः 824.29  
**अंदर जाना**  
 प्रदेश करना 1094.17  
**अंदर झाकना**  
 आत्मनिरीक्षण करना 284.46  
**अंदर डालना**  
 भराई करना 1004.8  
**अंदर न जाना**  
 प्रदेश न करना 1094.20  
**अंदर बाहर**  
*अंदर बाहर 999.16 ⇨*  
**अंदर बाहर गति**  
 पिस्टन गति 1035.8  
**अंदर बैठाना**  
 विजडित करना 1016.36  
**अंदर रखा**  
 प्रविष्टित 1094.25  
**अंदरला [अंदरली]**  
 आंतरिक 999.12  
**अंदर लेना**  
*अंदर लेना 1002.15 ⇨*  
**अंदर से**  
 मनत 351.9  
**अंदर से नहीं**  
 दिखावटी तीर पर 825.7  
**अंदर होना**  
*अंदर होना 999.8 ⇨*  
**अंदरी**  
 आंतरिक 999.12  
**अंदरीपन**  
 आंतरिकता 999.2  
**अंदरूनी**  
 आंतरिक 999.12  
 नितलीय 985.17  
 प्रेरणाजन्य 499.7  
 मर्मस्थ 999.14  
 मानसिक 351.8  
**अंदरूनी तीर पर**  
 अंदर अंदर 999.18  
**अंदरूनीपन**  
 आंतरिकता 999.2  
 नितलीयता 985.8  
**अंदरूनी बाहरी**  
 आंतरिक बाह्य 999.11  
**अंदाज़**  
 अंदाज़ 947.1  
 अंदा 860.4  
 कला शैली 397.14  
 कार्य विधि 514.1  
 ज्यामितीय आकृति 989.1  
 नाज़ नख़रा 860.1  
**अंदाज़ (जैसे: तीरंदाज़)**  
 प्रक्षेपयिता 1052.20  
**अंदाज़न**  
*अंदाज़न 947.28 ⇨*  
 अनुमानतः 308.22

**अंदाज़ना**  
 अंदाज़ लगाना 947.15  
**अंदाज़पट्टी**  
*अंदाज़पट्टी 947.2 ⇨*  
**अंदाज़पीटी**  
 रूप अभिमानीनी 860.22  
**अंदाज़पीर**  
 अंदाबाज़ 860.19  
**अंदाज़पीरी**  
 अंदा 860.4  
**अंदाज़ा**  
*अंदाज़ा 947.1 ⇨*  
 अटकल 947.3  
 अनुमान 308.8  
 आरंभिक अवस्था सूची 994.23  
**अंदाज़ा करना**  
 अंदाज़ा लगाना 947.15  
**अंदाज़ा कर्ता**  
*अंदाज़ा कर्ता 947.19 ⇨*  
**अंदाज़ा कर्म**  
 अंदाज़पट्टी 947.2  
**अंदाज़ा लगाना**  
*अंदाज़ा लगाना 947.15 ⇨*  
**अंदाज़े में**  
 अंदाज़न 947.28  
**अंदाज़े से**  
 अंदाज़न 947.28  
 अनुमानतः 308.22  
**अंदु**  
 पाज़ेब 228.18  
 बेड़ी 868.25  
**अंदेशा**  
 आशका 377.1  
**अंदोरा**  
 कोलाहल 294.8  
**अंदोह**  
 आशंका 377.1  
 दुख 391.1  
**अंध**  
 अंधा [अंधी] 164.8  
 उल्लू 126.14  
 गहन (अंधकार) 286.16  
 घमगादड़ 127.67  
**अंध-**  
 मतांध 343.18  
**अंधक**  
 दैत्य सूची 783.19  
**अंधक शत्रु**  
 चंद्रमा 8.2  
**अंधकार**  
*अंधकार 286.1 ⇨*  
 अज्ञान 308.1  
 अज्ञान अंधकार 308.2  
 आशाहीनता 378.1  
 कोहरा 80.10  
 ग्रहण 6.1  
 मेघाच्छन्नता 55.7  
 रात 48.1

- विषय वासना रूपी अज्ञान 761.2
- अंधकार करना**  
आलोक हरना 286.11
- अंधकारण**  
आलोक हरण 286.9
- अंधकारः देवता**  
अहिर्मन 785.3
- अंधकार नाशक**  
आलोकक 285.46
- अंधकार नाशन**  
आलोकन 285.2
- अंधकारपूर्ण**  
अंधकारपूर्ण 286.14 ⇌  
कुद्दर्य 282.21  
धूम्रपूर्ण 106.26
- अंधकारपूर्णता**  
अदृश्यता 282.10
- अंधकारमय**  
अज्ञानपूर्ण 306.11
- अंधकार में**  
गुप्तत 824.29
- अंधकार में डाना**  
ज्ञान न होना 306.10
- अंधकार हटना**  
आलोक होना 285.37
- अंधकार हटाना**  
आलोकित करना 285.39  
स्पष्ट होना 822.13
- अंधकारहीन**  
आलोकित 285.45
- अंधकार होना**  
अंधकार होना 286.10 ⇌
- अंधकाराच्छन्न**  
अंधकारपूर्ण 286.14
- अंधकारि**  
शिव 767.1  
सूर्य 8.1
- अंधखोपड़ी**  
मदधी 302.8
- अंधड़**  
औंधी धूल 85.6
- अंधता**  
अंधता 164.3 ⇌  
प्रेमासक्ति 368.8
- अंध तामिस्र**  
अज्ञान अंधकार 306.2  
गहन अंधकार 286.2  
नरक सूची 259.7
- अंध दोष**  
काव्य दोष सूची 453.6
- अंधनंगावन**  
अंध नग्नता 590.6
- अंधबाई**  
औंधी धूल 85.6
- अंध भक्त**  
अंध भक्त 752.4 ⇌  
अंधानुगामी 345.8
- अंध भक्ति**  
अंध भक्ति 752.3 ⇌  
मतांधता 343.11
- अंधमति**  
मूर्ख 302.7
- अंध महासागर**  
अतलांतिक महासागर 24.13
- अंध लिपि**  
अंध लिपि 409.4 ⇌
- अंध विश्वास**  
अवैज्ञानिकता 307.3  
भ्रम विश्वास 340.3  
मतांधता 343.11
- अंध विश्वासपूर्ण**  
विज्ञान विरुद्ध 307.14
- अंध विश्वासी**  
मतांध 343.18
- अंध श्रद्धा**  
भ्रम विश्वास 340.3
- अंध श्रद्धालु**  
भ्रम विश्वासी 340.15
- अंध समर्थक**  
अंधानुगामी 345.8
- अंधा [अंधी]**  
अंधा [अंधी] 164.8 ⇌  
मतांध 343.18  
मूर्ख 302.7
- अंधा दुःखी**  
जलहीन कूप 19.5
- अंधाकुम्प**  
क्लक आउट 28.3
- अंधा घोड़ा**  
साधु जुता 588.25
- अंधा तारा**  
वरुण ग्रह 7.15
- अंधाधुंध**  
असंख्यतः 944.13
- अंधाधुंध इत्या**  
मारकाट 905.25
- अंधानुकरण**  
अंधानुकरण 505.9 ⇌
- अंधानुकरण करना**  
अंधानुकरण करना 505.17 ⇌
- अंधानुकरण कर्ता**  
अंधानुकरण कर्ता 505.32 ⇌
- अंधानुकर्ता**  
अंधानुकरण कर्ता 505.32
- अंधानुकृति**  
अंधानुकृति 397.28 ⇌
- अंधानुगमन**  
अंधानुगमन 345.3 ⇌
- अंधानुगमन करना**  
अंधानुगमन करना 345.6 ⇌
- अंधानुगामी**  
अंधानुगामी 345.8 ⇌
- अंधानुयायिता**  
मतांधता 343.11
- अंधानुसरण**  
अंधानुगमन 345.3
- अंधापन**  
अंधता 164.3
- अंधा बनाना**  
छल करना 827.14
- अंधार**  
अंधकार 286.1
- अंधाहि**  
विषहीन सर्प 123.15  
सर्प सूची 123.16
- अंधा होना**  
प्रेमासक्त होना 368.15
- अंधिका**  
औंध मिथीनी 476.2
- औंधियार**  
मेघाच्छन्नता 55.7
- औंधियारा**  
अंधकार 286.1
- औंधियारा [औंधियारी]**  
अंधकारपूर्ण 286.14
- औंधियारी**  
अँटीतल 555.26
- अंधकार 286.1**
- औंधियाव**  
औंधी धूल 85.6
- अंधी उकान**  
यत्र घालित उकान 1081.12
- अंधी गली**  
अंधी गली 1063.50 ⇌
- अंधी नकल**  
अनूदित कृति 397.29
- अंधुल**  
शिशिर 13.21
- अंधेर**  
अत्याचार 835.3  
अनेतिकता 816.1  
कुशासन 894.3  
न्यायहीनता 874.3  
हेकड़ी 734.10
- अंधेरगर्दी**  
कुशासन 894.3  
हेकड़ी 734.10
- अंधेर नगरी**  
कुशासन 894.3
- अंधेरना**  
आलोक हरना 286.11
- अंधेरा**  
अंधकार 286.1  
अत्याचार 835.3  
आशाहीनता 378.1  
उदासी 380.5  
मेघाच्छन्नता 55.7  
रात 48.1
- अंधेरा [अंधेरी]**  
अंधकारपूर्ण 286.14  
कुद्दर्य 282.21  
ताराहीन 3.17
- मेघाच्छन्न 55.14**
- अंधेरा उजाला**  
अंधेरा उजाला 480.2 ⇌  
उन्नति अवनति 532.3  
विपरीतता. उपमान सूची 310.13
- अंधेरा उत्तरना**  
अंधकार होना 286.10
- अंधेरा करना**  
आलोक हरना 286.11
- अंधेरा घुब**  
गहन अंधकार 286.2
- अंधेरा छाना**  
अंधकार होना 286.10
- अंधेरा पखवाड़ा**  
कृष्ण पक्ष 45.2
- अंधेरा होना**  
अंधकार होना 286.10
- अंधेरा होने पर**  
सायंकाल में 47.22
- अंधेरी**  
अँटीतल 555.26  
औंधी धूल 85.6  
घोड़ा: औंध परदा 555.27
- अंधेरी कोठरी**  
गर्माशय 152.14  
तंग कोठरी 814.4  
रहस्य 823.7
- अंधेरी झालना**  
औंध मुँद कर लूटना 864.48  
छल करना 821.14
- अंधेरी रात**  
अंधेरी रात 48.3 ⇌  
अमावस. रात 48.5
- अंधेरे घर का उजाला**  
इकलीता वेटा 718.6
- अंधेरे मुँह**  
प्रभात में 47.21
- अंधेरे में**  
गुप्ततः 824.29
- अँधोटी**  
अँटीतल 555.26
- अँधीरी**  
मरोड़ी 165.10
- अंधावर (अँ)**  
खेल निर्णायक 475.17
- अंध**  
आम 190.8  
आम वृक्ष 13.5  
जल 88.1  
माता 717.7  
वेद 740.22
- अंधक**  
ताँबा 94.8
- अंधर**  
आकाश 2.1  
उत्तरीय 585.7  
ओष्ठ 143.2  
कपास 568.4

## अंबरचर

कस्तूरी 274.15  
 केसर 274.16  
 परिधान 583.1  
 परिधि 972.4  
 भंडार 670.3  
 मेघ 55.1  
 वस्त्र 579.1  
 शून्यः उपमान सूची 948.15  
 साड़ी 586.16

**अंबरचर**  
 उडुडयनशील 1030.32  
 पक्षी 126.1  
 विद्याधर 779.15

**अंबर चरखा**  
 अंबर चरखा 562.7 ⇨

**अंबरघारी**  
 ग्रह 7.2

**अंबर डंबर**  
 सूर्य लालिमा 287.13

**अंबरद**  
 कपास 568.4

**अंबर मणि**  
 सूर्य 8.1

**अंबर युग**  
 परिधान समुदाय 583.16

**अंबरलेखी**  
 गगनचुंबी 982.11

**अंबर शील**  
 ऊँचा पर्यत 16.4

**अंबरसारी (प्राचीन)**  
 गृह कर 647.9

**अंबररांत**  
 कन्नौरी 571.33  
 क्षितिज 2.4  
 पलाय 586.24

**अंबररांतीय**  
 अनुक्षितिज 1020.12  
 क्षितिजीय 2.9

**अंबरराई**  
 आग्र वन 12.22

**अंबरारंभ**  
 क्षितिज 2.4

**अंबररीय**  
 आकाशीय 2.7  
 वस्त्रीय 579.24

**अंबररीय**  
 ऑवला 189.6  
 नरक सूची 259.7  
 परधासाप 380.4  
 भरभूजा. कड़ाह 682.6  
 माड 109.14  
 युद्ध 805.4  
 विष्णु 788.1  
 शिव 767.1  
 सूर्य 8.1

**अंबर्रीका**  
 देवता 772.1

**अंबट्ट**  
 महायत 1082.15

**अंबट्टा**  
 अमड़ा 277.7

**अंबा**  
 पार्यती 776.9  
 माता 717.7

**अंबा (पुनर्जन्म)**  
 शिखंडी 771.90

**अंबाझोर**  
 औंधी 85.5

**अंबाका**  
 माता 717.7

**अंबार**  
 ढेर 686.6

**अंबार खाना**  
 भंडार घर 670.5  
 माल गोदाम 670.22

**अंबारी**  
 जीन सूची 595.48  
 मडप 600.8  
 महमिल 595.52  
 सन 568.2  
 हौदा 595.53

**अंबारीय**  
 राशि विषयक 686.21

**अंबालिका**  
 माता 717.7

**अंबिका**  
 पार्यती 776.9  
 भगवती 774.59  
 माता 717.7  
 योग माया 771.82

**अंबिका दासीः पुत्र**  
 यिदुर 771.87

**अंबिका पति**  
 शिव 767.1

**अंबिका सुत**  
 धृतराष्ट्र 771.65

**अंबी**  
 अंबी 277.3 ⇨  
 कच्चा आम 190.9

**अंबीः सूखी फौक**  
 अमहर 277.5

**अंबीः सूखी फौक चूर्ण**  
 अमचूर 277.8

**अंबु**  
 जल 88.1

**अंबु किरात**  
 घड़ियाल 123.5

**अंबुकीरा**  
 मछली 125.1  
 सूँस 124.12

**अंबु क्रिया**  
 तर्पण 253.22

**अंबुग**  
 मछली 125.1

**अंबुघन**  
 ओला 54.15

**अंबुघर**  
 मछली 125.1

**अंबुज**  
 कपूर 274.14  
 कमल 14.4  
 चंद्रमा 8.2  
 जलज 88.24  
 बेत 923.8  
 ब्रह्मा 766.1  
 राख 461.78  
 सारस 126.74

**अंबुजा**  
 कमलिनी 14.8  
 कुमुद 14.9

**अंबुजाक्ष**  
 विष्णु 768.1

**अंबुजात**  
 इंद्र वज्र 928.8  
 जलज 88.24

**अंबुजासन**  
 ब्रह्मा 766.1

**अंबुजासना**  
 लक्ष्मी 775.1

**अंबुघर**  
 मेघ 55.1

**अंबुधि**  
 चार उपमान सूची 948.24  
 जलकुड 679.39  
 समुद्र 24.1

**अंबुनिधि**  
 समुद्र 24.1

**अंबु पद्धति**  
 जलधारा 21.15

**अंबुपात**  
 जलधारा 21.15

**अंबु प्रवाह**  
 जल प्रवाह 21.9

**अंबुभय**  
 जलज 88.24

**अंबुमात्रज**  
 धोघा 124.16

**अंबुराज**  
 वरुण 773.43

**अंबुरुह**  
 जलज 88.24

**अंबुवाह**  
 मेघ 55.1

**अंबुवाह [अंबुवाहिनी]**  
 पनहार 19.25

**अंबुवाही**  
 नागर मोथा 281.22

**अंबुराघी**  
 नारायण (नर) 764.19

**अंबु सर्पिणी**  
 जौक 122.8

**अंबु सेवनी**  
 सिंचन पुहारा 1032.12

**अंबोह**  
 अव्यवस्थित समूह 680.4

**अंभ**  
 आकाश 2.1  
 जल 88.1

**अंभज**  
 कमल 14.4  
 जलज 88.24

**अंभसार**  
 मोती 97.2

**अंभारि**  
 अग्नि 106.1

**अंभोज**  
 कमल 14.4  
 चंद्रमा 8.2  
 जलज 88.24  
 शंख 461.78

**अंभोजिनी**  
 कमल 14.4  
 कमल सरोवर 18.3  
 कमलिनी 14.8

**अंश**  
 अंश 939.2 ⇨  
 अंश 960.12 ⇨  
 खंड 938.1  
 चक्रांश माप 960.1  
 घतुर्थांश 949.20  
 तापांक 103.11  
 पारा 739.4  
 प्राप्य अंश 623.8  
 भिन्न संख्या 949.16  
 मात्रा 946.3  
 राग स्वर. प्रकार सूची 459.18  
 लामांश 646.6  
 विभाज्य संख्या 955.18  
 होयर 628.13  
 संघटक 545.3  
 संभाग 937.1  
 साझा 621.6  
 स्क्थ 147.3

**अंश (दे. खंड)**  
 अंश 939.2

**अंशः 1**  
 अंश 960.12

**अंशः 11:25**  
 चक्रः बत्तीसवाँ भाग 960.9

**अंशः 1/80**  
 अंशः साठवाँ भाग 960.13

**अंशः 180**  
 चक्रः आधा भाग 960.2

**अंशः 22.5**  
 चक्रः सोलहवाँ भाग 960.7

**अंशः 45**  
 चक्रः आठवाँ भाग 960.5

**अंशः 60**  
 चक्रः छठा भाग 960.4

- अंशः 90**  
 चक्रः चौथा भाग 960.3  
**अंश अब्जतार**  
 अंशावतार 769.3  
**अंशकालिक**  
 अंशकालिक 650.19 ⇐  
**अंश ग्रहण**  
 अंश ग्रहण 6.2 ⇐  
**अंशतः**  
 आंशिकतः 939.20  
**अंशता**  
 अंशता 939.1 ⇐  
 वैयक्तिकता 889.2  
**अंशवान**  
 चंदा 665.1  
**अंश वाय**  
 चंदा 685.1  
**अंशधर**  
 अंशाधिकारी 623.24  
**अंश धारण**  
 साझेदारी 621.7  
**अंशधारी**  
 अंशाधिकारी 623.24  
 शोचरधारी 628.31  
 साझेदार 621.8  
**अंशपत्र**  
 शोचर पत्र 628.14  
**अंश पूंजी**  
 शोचर पूंजी 628.12  
**अंशभागी**  
 अंशाधिकारी 623.24  
**अंश माप**  
 चक्रांश माप 960.1  
**अंश में**  
 मात्रा में 946.22  
**अंशयुक्त**  
 खंडीय 938.50  
**अंशाल**  
 अंशाधिकारी 623.24  
**अंश विभाजन**  
 उत्तराधिकार विभाजन 623.8  
**अंश विभाजन पत्र**  
 विभाजन दस्तावेज़ 623.7  
**अंश संख्या**  
 भिन्न संख्या 949.16  
**अंशः साठवीं भाग**  
 अंशः साठवीं भाग 960.13 ⇐  
**अंश स्वर**  
 वादी स्वर 459.21  
**अंशहारी**  
 शोचरधारी 628.31  
**अंशहीन**  
 पूर्णांशिक 940.13  
**अंशहीनता**  
 पूर्णांशता 940.5  
**अंशांक**  
 भिन्न संख्या 949.16
- अंशाधिकार**  
 अंशाधिकार 623.9 ⇐  
**अंशाधिकारी**  
 अंशाधिकारी 623.24 ⇐  
**अंशावतार**  
 अंशावतार 769.3 ⇐  
 नर (नारायण) 764.18  
**अंशी**  
 अयतार 769.1  
 खंडीय 938.50  
 शरीरी 139.13  
 साझेदार 621.8  
**अंशीय**  
 आंशिक 939.11  
 संभागीय 937.12  
**अंशीयता**  
 अंशता 939.1  
**अंशु**  
 प्रकाश किरण 288.1  
 राशि 686.2  
 वेग 1042.9  
 सूर्य किरण 288.3  
**अंशुक**  
 अर्थ प्रकाश 287.10  
 उत्तरीय 585.7  
 मलमल 580.35  
 महीन वस्त्र 579.7  
 रेशमी वस्त्र 579.10  
 वस्त्र 579.1  
**अंशुधर**  
 सूर्य 8.1  
**अंशुमय**  
 रोहंदा 569.31  
**अंशुमान**  
 चंद्रमा 8.2  
 तंतुयुक्त 569.29  
 बारह आदित्य सूची 777.4  
 रोहंदा 569.31  
**अंशुमाली**  
 सूर्य 8.1  
**अंशुल**  
 आलोकित 285.45  
**अंस**  
 घोड़ा 127.35  
 स्कंध 147.3  
**अंस कूट**  
 कूब 147.9  
**अंसत्र**  
 स्कंध कवच 921.10  
**अंस त्राण**  
 स्कंध कवच 921.10  
**अंसपूर्ति**  
 कार्य असमाप्ति 523.1  
**अंसभारिक**  
 स्कंधः भार वाहक 1081.23  
**अंसल**  
 अंशाधिकारी 623.24  
 बलिष्ठ 160.10
- स्कंधः भार वाहक 1081.23**  
**अंसुआना**  
 अंसु आना 387.4  
**अंसुवन (बहु)**  
 अभु 387.1  
**अंस्य**  
 स्कंधीय 147.11  
**अ-**  
 बुराः उपसर्ग सूची 314.11  
**अ**  
 ब्रह्मा 766.1  
**अ-**  
 रहित. उपसर्ग सूची 1007.5  
 विपरीत 310.7  
**अ आ**  
 आरंभिक ज्ञान 994.5  
**अ उ म्**  
 ओम् 741.19  
**अऊठा**  
 कपड़ा. मापी 959.4  
**अऊत**  
 पुत्रहीन 240.10  
**अऊलना**  
 दग्ध होना 108.9  
**अऊणी**  
 ऋणमुक्त 633.36  
**अकंटक**  
 अवरोधहीन 1049.13  
 कंटकहीन 115.16  
 शत्रुहीन 706.17  
**अकंठ**  
 वाचाहीन 429.25  
**अकंप**  
 शिव 767.1  
**अकंपन**  
 राक्षस सूची 784.4  
**अकंपन विकंपन**  
 असुरादि जोड़ी सूची 783.4  
**अकंपित**  
 निरघल 1038.8  
**अकंपितता**  
 निरघलता 1038.2  
**अकच**  
 गंजा 137.30  
**अकचकाना**  
 आरघ्य होना 379.5  
**अकच्छ**  
 कामुक 237.14  
 नग्न 590.16  
**अकटिबद्ध**  
 असन्नद 492.19  
**अकटिबद्धता**  
 असन्नदता 492.7  
**अकट्टर**  
 उदार 344.5  
**अकठिन**  
 सहज 518.14  
 सत्य 872.18
- अकठोर**  
 कोमल 289.18  
**अकठोरता**  
 कोमलता 289.4  
**अकड**  
 अकड 734.9 ⇐  
 अभिमान गति 1084.2  
 धृष्टता 734.8  
 हठ 349.4  
**अकड कर चलना**  
 अभिमान से चलना 1084.28  
**अकड कर बोलना**  
 धृष्ट भाषण करना 432.10  
**अकडतकड**  
 अकड 734.9  
 आन 349.3  
**अकड तकड**  
 इतराहट 860.5  
**अकडन**  
 ऐंठन 392.8  
 जकडन 392.10  
 तिवुरन 105.4  
**अकडना**  
 तिवुरना 105.18  
 धृष्टता दिखाना 734.12  
 हठ करना 349.9  
**अकडफों**  
 अकड 734.9  
**अकडफों**  
 अभिमान गति 1084.2  
**अकडफों दिखाना**  
 धृष्ट भाषण करना 432.10  
**अकडबाज़**  
 अकडबाज़ 734.22 ⇐  
**अकडबाज़ी**  
 अकड 734.9  
**अकडू**  
 अकडबाज़ 734.22  
**अकडैत**  
 अकडबाज़ 734.22  
**अकथन**  
 अकथन 429.2 ⇐  
**अकथनीय**  
 अकथनीय 429.21 ⇐  
 अवर्णनीय 449.26  
**अकथनीयता**  
 अवर्णनीयता 449.2  
**अकथित**  
 अकथित 429.20 ⇐  
 अनभिव्यक्त 429.19  
**अकथित अर्थ**  
 व्यंजनार्थ 426.6  
**अकथ्य**  
 अकथनीय 429.21  
 अवर्णनीय 449.26  
 गोपनीय 824.21  
**अकथ्यता**  
 अवर्णनीयता 449.2

## अक्रद

गोपनीयता 824.3  
**अक्रद**  
 विवाह 799.1  
**अकधक**  
 आशंका 377.1  
 विमर्श 330.11  
**अकनना**  
 आहट लेना 297 42  
**अकनिष्ठ**  
 गीतम बुद्ध 793 1  
**अकपट**  
 सरलता 817.2  
**अकपट आय**  
 अकपट आय 643 7 ⇨  
**अकबक**  
 आश्चर्यित 379 8  
 घेतना 263.4  
 प्रलाप 428 6  
 बकवास 428 7  
**अकबकाना**  
 आश्चर्य होना 379.5  
 उद्दिग्ग होना 377 7  
 निरुत्तर होना 335 7  
**अकबर**  
 महान 839.8  
**अकबर: धर्म**  
 दीन इलाही 736 15  
**अकर**  
 असाध्य 519 22  
 करेतर 647 41  
**अकरण**  
 अकरण 505.2 ⇨  
 इन्द्रियहीन 268 13  
 निराकार ईश्वर 764 8  
**अकरणीय**  
 अकरणीय 505.19 ⇨  
 असगत 439 5  
**अकरा [अकरा]**  
 नहंगा [नहंगी] 664 34  
**अकरापन**  
 बहुमूल्यता 664 11  
**अकराम**  
 दान 641 1  
**अकरास**  
 अँगड़ाई 860 3  
**अकरुण**  
 निर्दय 835 10  
**अकरुणा**  
 निर्दयता 835 2  
**अकर्ण**  
 सर्प 123.10  
**अकर्ण गोबर**  
 अश्रुतिगम्य 293 18  
**अकर्ण्य**  
 अश्रुतिगम्य 293 18  
 अश्रोतव्य 401.13  
**अकर्तव्य**  
 अकरणीय 505.19

पाप 812.1  
**अकर्ता**  
 अकर्ता 505 24 ⇨  
 पुरुष 764.21  
 शिय 767 1  
**अकर्तार**  
 अकर्ता 505 24  
**अकर्तुक**  
 अकर्तुक 505.22 ⇨  
**अकर्म**  
 अकरण 505.2  
 अकर्म 504.5 ⇨  
 अघटन 75.3  
**अकर्मक क्रिया**  
 क्रिया सूची 425 5  
**अकर्मठ**  
 प्रारब्धयादी 260 29  
**अकर्मण्य**  
 अप्रयत्नशील 490 9  
 आलसी 490 14  
 प्रारब्धयादी 260.29  
 स्फूर्तिहीन 492.14  
**अकर्मण्यता:**  
 अप्रयत्न 490.15  
**अकर्मण्यता**  
 अप्रयत्न 490 1  
 स्फूर्तिहीनता 492 3  
**अकर्मण्य रहना**  
 प्रयत्न न करना 490 6  
**अकर्मा**  
 ईश्वर 764 1  
**अकर्मी**  
 अप्रयत्नशील 490 9  
**अकलक**  
 अपराधहीन 861 16  
 परिपूर्ण 313.14  
**अकलंकता**  
 परिपूर्णता 313 5  
**अकल**  
 निराकार ईश्वर 764.8  
**अक़ल**  
 सुझाय 332.5  
**अकलसुरा [अकलसुरी]**  
 ईर्ष्यालु 709 6  
**अक़ल चकराना**  
 भ्रमित होना 342 9  
**अकल दाढ़**  
 अक्कल दाढ़ 144.8  
**अकलात्मक**  
 कलाहीन 403 4  
**अकलात्मकता**  
 कलाहीनता 403 1  
**अकलुष**  
 परिपूर्ण 313.14  
 स्वच्छ 218 33  
**अकलुष इस्पात**  
 स्टेनलेस स्टील 93.15

**अकलुषता**  
 परिपूर्णता 313.5  
**अकल्क**  
 ईमानदारी 815.2  
 पापहीन 813 9  
 स्वच्छ 218.33  
**अकल्कक**  
 ईमानदार 815 7  
 यिनन्न 7३3 19  
**अकल्पनीय**  
 कल्पनातीत 944.10  
 प्रत्याशातीत 944.9  
**अकल्पनीयता**  
 कल्पनातीतता 944.4  
**अकल्पित**  
 अप्रत्याशित 376.7  
 अरथित 528.6  
 अविचारित 330 24  
 कल्पनातीत 944.10  
 मानव अरथित 528 9  
 वास्तविक 820 23  
**अकल्प्य**  
 परिपूर्ण 313.14  
 पापहीन 813 9  
 शिय 767 1  
**अकल्याण**  
 अकल्याण 711 1 ⇨  
**अकल्याण (दे.)**  
 अहित 712 2  
**अकल्याण कामना**  
 अकल्याण कामना 711.3 ⇨  
**अकल्याण कामना करना**  
 अकल्याण कामना करना 711 7 ⇨  
**अकल्याण कामी**  
 अकल्याण कामी 711.11 ⇨  
**अकल्याणकारिता**  
 अकल्याणकारिता 711 2 ⇨  
**अकल्याणकारी**  
 अकल्याणकारी 711.9 ⇨  
**अकल्याण निवारक**  
 अकल्याण निवारक 710.27 ⇨  
**अकल्याण निवारण**  
 अकल्याण निवारण 710 9 ⇨  
**अकल्याण निवारना**  
 अकल्याण निवारना 710.17 ⇨  
**अकल्याण भाषी**  
 अकल्याण भाषी 711 12 ⇨  
**अकल्याण सूचक**  
 अकल्याण सूचक 711.10 ⇨  
**अकल्याण होना**  
 अकल्याण होना 711.6 ⇨  
**अकस**  
 ईर्ष्या 709 1  
 छाप 414.9  
 परछाई 286.6  
**अकसर**  
 प्राय 73 7  
 सुलभ 943.10

**अकसर नहीं**  
 कभी कभी 36.25  
**अकसरीयत**  
 बहुसंख्या 616.10  
 सुलभता 943 2  
**अकसी**  
 ईर्ष्यालु 709 6  
**अकसीर**  
 अघूक औषध 176.8  
**अकसीरगर**  
 कीमियागर 87 7  
**अकस्मात**  
 अकस्मात 69.13 ⇨  
**अकस्मान होने वाला**  
 आकस्मिक 69.10  
**अकड**  
 अयर्णनीय 449 26  
**अकांड**  
 आकस्मिक 69 10  
 कारणहीनतः 507.8  
 प्रयोजनहीनतः 509.5  
**अकांडजात**  
 आकस्मिक 69 10  
**अकांडजातता**  
 आकस्मिकता 69 4  
**अकांड तांडव**  
 उछल कूद 1086 1  
 वितडा 324 5  
**अकाति**  
 धुंधलापन 286 8  
**अकारंट (अँ)**  
 लेखा 632 1  
 लेखा शीर्षक 632.4  
**अकारंट कीर्षिग (अँ)**  
 लेखा पालन 632 31  
**अकारंट बुक (अँ)**  
 लेखा पुस्तक 632.8  
**अकारंटेंट (अँ)**  
 लेखापाल 632 32  
**अकारंटेंटी**  
 लेखा पालन 632.31  
**अकाधित**  
 मेट (प्रिंट) 405 8  
**अकाज**  
 दुष्कर्म 812.6  
 प्रयोजनहीनतः 509.5  
 हानि 646 7  
**अकाजी**  
 दुष्कर्म 812.15  
**अकाट**  
 अखंडनीय 326.19  
**अकाटच**  
 अखंडनीय 326.19  
 अनिवार्य 919 9  
**अकाटच बचन**  
 प्रामाणिक कथन 327.4  
**अकागी**  
 कर्णधार 1080.19

**अकातर**  
साहसी 394.13  
**अकादमी**  
शिक्षालय सूची 321.11  
**अकाम**  
अनासक्त 366.5  
इंद्रियहीन 268.13  
इच्छाहीन 360.9  
ईश्वर 764.1  
कर्मफल त्यागी 504.21  
कामहीन 237.17  
निष्काम कर्मी 504.19  
**अकाम कर्म**  
निष्काम कर्म 504.6  
**अकाम कर्मी**  
कर्मफल त्यागी 504.21  
निष्काम कर्मी 504.19  
**अकामतः**  
इच्छाहीनत 360.21  
**अकामना**  
अप्रत्याशा 376.3  
इच्छाहीनता 360.1  
**अकाम्य**  
अनिच्छनीय 360.11  
**अकाय**  
अशारीरी 139.14  
ईश्वर 764.1  
निराकार 967.13  
निराकार ईश्वर 764.8  
**अकारण**  
अकृततः 505.34  
कारणहीनत 507.8  
प्रयोजनहीन 509.3  
प्रयोजनहीनत 509.5  
**अकारणतः**  
अकृततः 505.34  
प्रयोजनहीनतः 509.5  
**अकारणता**  
प्रयोजनहीनता 509.1  
**अकारथ**  
अनुपयोगी 525.8  
प्रयोजनहीन 509.3  
प्रयोजनहीनतः 509.5  
लाभहीन 649.12  
**अकारथता**  
अनुपयोगिता 525.2  
**अकारांत क्रम**  
अकारांत क्रम 991.6 ⇌  
**अकाराणु (प्र)**  
ऐल्का कण 78.13  
**अकारादिका**  
इंडेक्स 993.8  
**अकारादि क्रम**  
अकारादि क्रम 991.5 ⇌  
**अकार्बनिक रसायन**  
अकार्बनिक रसायन 87.2 ⇌  
**अकार्य**  
अकरणीय 505.19

अकर्म 504.5  
अघटन 75.3  
अघटना 75.2  
असाध्य 519.22  
दुष्कर्म 812.6  
**अकार्यकारी**  
कर्तव्य विमुख 896.8  
**अकार्यता**  
असाध्यता 519.6  
**अकार्यरत**  
अप्रयुक्त 503.11  
**अकार्यरता**  
अप्रयुक्तता 503.3  
**अकार्यान्ययन**  
अकार्यान्ययन 505.6 ⇌  
**अकार्यान्यित**  
अकार्यान्यित 505.26 ⇌  
**अकाल**  
अकालजात 62.18  
अनुपयुक्त अवसर 70.4  
असमयानुसार 82.13  
दुर्भिक्ष 627.4  
दुर्लभता 942.5  
वर्षाहीनता 54.2  
शिय 767.1  
**अकाल आदि**  
भौतिक संकट 909.3  
**अकाल कुण्ड**  
अनुपयोगी वस्तु 526.1  
**अकालग्रस्त**  
दुर्भिक्षग्रस्त 627.19  
**अकालजात**  
अकालजात 62.18 ⇌  
**अकालजातता**  
अकालजातता 62.6 ⇌  
**अकालतः**  
असमयानुसारतः 82.23  
**अकाल धर्म**  
सिख धर्म 737.19  
**अकालपक्ष्य**  
अकालजात 62.18  
**अकाल परिणति**  
अकालजातता 62.6  
**अकाल परिपक्वता**  
अकालजातता 62.6  
**अकाल पुरुष**  
ईश्वर 764.1  
**अकाल प्रसूत**  
अकाल प्रसूत 244.15 ⇌  
**अकाल प्रौढ़**  
अकालजात 62.18  
**अकाल बेला**  
अनुपयुक्त अवसर 70.4  
**अकाल मृत्यु मीमांसा**  
मृत्यु मीमांसा 251.12  
**अकाल बयस्क**  
अकाल बयस्क 229.23 ⇌

**अकाल होना**  
दुर्लभ होना 942.11  
**अकालातीत**  
अप्राचीन 64.9  
**अकालातीतता**  
अप्राचीनता 64.2  
**अकालिक**  
अकालजात 62.18  
अवसर प्रतिकूल 70.15  
**अकाली**  
अकाली सिख 737.21  
**अकाली सिख**  
अकाली सिख 737.21 ⇌  
**अकालोत्पन्न**  
अकालजात 62.18  
**अकाल्पनिक**  
वास्तविक 820.23  
**अकाल्पनिकता**  
वास्तविकता 820.13  
**अकाल्पनिक**  
अकाल्पनिक 451.30 ⇌  
**अकास बौधना**  
कठिन कार्य करना 487.17  
**अकास बानी**  
देव वाणी 742.8  
**अकासी**  
धील 126.41  
ताड़ निर्यास 84.9  
**अकिंचन**  
अख्यात 848.5  
दिवालिया 646.19  
नगण्य 853.10  
निर्धन 627.20  
**अकिंचनता**  
नगण्यता 853.3  
निर्धनता 627.5  
**अकितव्य**  
छलहीन 815.8  
**अकिस्थिष्य**  
पापहीन 813.9  
**अक्रीवत**  
धर्म 735.1  
**अक्रीवतमंद**  
श्रद्धालु 340.18  
**अक्रीवा**  
आस्था भाव 752.13  
धर्म 735.1  
विश्वास 340.1  
श्रद्धा 340.5  
**अकीर्ति**  
अख्याति 848.2  
**अकुंठ**  
सक्षम 487.25  
**अकुंठित**  
तीक्ष्ण 270.19  
**अकुटिल**  
छलहीन 815.8  
सरल 817.8

**अकुटिलता**  
छलहीनता 815.3  
सरलता 817.2  
**अकुटुंब**  
परिवारहीन 726.15  
**अकुपंचर (हिंदी बोलचाल)**  
ऐक्यपंचर 172.17  
**अकुप्य धानु**  
खरा चाँदी सोना 95.2  
**अकुल**  
जातिहीन 730.18  
निम्न कुल 728.8  
**अकुलागत**  
अदायागत 623.28  
**अकुलागति**  
अदायागतता 623.20  
**अकुलाता [अकुलाती]**  
कंपित 1039.20  
**अकुलाना**  
उद्दिन होना 377.7  
कंपित होना 1039.17  
**अकुलाइट**  
उद्दिनता 377.4  
कंपन 1039.11  
**अकुलिनी**  
व्यभिचारिणी 806.11  
**अकुलीन**  
अकुलीन 728.16 ⇌  
असभ्य 734.14  
जातिहीन 730.18  
नगण्य 853.10  
निम्न वर्णीय 731.33  
**अकुलीन जन**  
अकुलीन जन 728.10 ⇌  
**अकुलीनता**  
अकुलीनता 728.9 ⇌  
असभ्यता 734.1  
**अकुलीय**  
जातिहीन 730.18  
**अकुशल**  
अनुभवहीन 304.8  
अप्रवीण 304.9  
दुर्भाग्यशाली 260.34  
**अकुशलता**  
अकल्याण 711.1  
अप्रवीणता 304.4  
**अकुशल शक्ति**  
अकुशल शक्ति 651.21 ⇌  
**अकुशाराप्र**  
मंदघी 302.8  
**अकुट**  
छलहीन 815.8  
जंगम 1037.18  
**अकुटकृत**  
खरा [खरी] 98.12  
**अकुत**  
असंख्य 944.8

## अकृतता

**अकृतता**  
 असख्यता 944 3  
 कल्पनातीतता 944 4  
**अकृपार**  
 असीम 1001 34  
 कष्टुआ 123 2  
 चट्टान 99 14  
 समुद्र 24 1  
**अकृष**  
 गजा 137 30  
 गौतम बुद्ध 793 1  
**अकूल**  
 असीम 1001 34  
**अकृयार**  
 कष्टुआ 123 2  
 चट्टान 99 14  
 समुद्र 24 1  
 सूर्य 8 1  
**अकृहल**  
 असख्य 944 8  
**अकृत**  
 अकार्यान्वित 505 26  
 अकृत 505 21 ⇨  
 अघटित 75 14  
 अपक्व 195 78  
 अरथित 528 6  
 कार्य मध्य 996 5  
 मानव अरथित 528 9  
**अकृतकार्य**  
 असफल 513 4  
**अकृतकार्यता**  
 असफलता 513 1  
**अकृतज्ञ**  
 अकृतज्ञ 833 10 ⇨  
**अकृतज्ञता**  
 अकृतज्ञता 833 3 ⇨  
**अकृततः**  
 अकृतत 505 34 ⇨  
**अकृत रूप**  
 अपरिवर्तित रूप 533 3  
**अकृतशुल्क**  
 करमुक्त 647 42  
**अकृत होना**  
 न होना 505 15  
**अकृतात्मा**  
 दुराराय 818 9  
**अकृतार्थ**  
 अकृतज्ञ 833 10  
 असफल 513 4  
**अकृतार्थता**  
 अकृतज्ञता 833.3  
**अकृतित्व**  
 रचनाहीनता 528.2  
**अकृत्य**  
 अकृत्य 505 19  
**अकृत्यनी**  
 दुष्कृत 812.15

**अकृत्रिम**  
 अकर्तृक 505 22  
 अनलकृत 227 5  
 खरा [खरी] 98 12  
 छद्महीन 822 30  
 मानव अरथित 528 9  
 स्वाभाविक 836 11  
**अकृत्रिमता**  
 अनलकृतता 227 2  
 छद्महीनता 822 11  
 मानव अरथितता 528 3  
 स्वाभाविकता 836 5  
**अकृपण**  
 दानवीर 641 28  
**अकृपणता**  
 दानीत्व 641 2  
**अकृपा**  
 अदया 835 1  
 अप्रसन्नता 381 3  
**अकृपालु**  
 अदयालु 835 8  
**अकृश**  
 स्थूलकाय 154 29  
**अकृषित (अनाज)**  
 अकृषित (अनाज) 187 22 ⇨  
**अकृषित अनाज**  
 अकृषित अनाज 187 3 ⇨  
**अकृषित खाद्यान्न**  
 अकृषित अनाज 187 3  
**अकृष्ट**  
 अकृषित (अनाज) 187 22  
 अहलित 548 49  
**अकृष्ट भूमि**  
 परती 552 6  
**अकृष्ण**  
 श्वेत 289 65  
**अकेंद्रित**  
 केन्द्रहीन 971 23  
**अकेंद्रितता**  
 केन्द्रहीनता 971 9  
**अकेंतन**  
 आवासहीन 617 11  
**अकेला**  
 पत्नीपुत्रहीन पुरुष 236 19  
**अकेला [अकेली]**  
 अतरामिमुखी 838 14  
 अनुपम 312 17  
 एकमात्र 946.20  
 एकाकी 697 14  
 निर्जन 617 16  
 परिष्कारहीन 726 15  
 मित्रहीन 705 29  
**अकेला दुकेली [अकेली दुकेली]**  
 अल्प 912 2  
**अकेलापन**  
 अतरामिमुखी 838 8  
 अनुपमता 946 2  
 एकांतता 697 14

निर्जनता 617.6  
 परिवारहीनता 726 4  
 वैयक्तिकता 689 2  
**अकेलापन अच्छा लगना**  
 पृथक रहना 697 9  
**अकेला में**  
 मैं 316 20  
**अकेला रहन्**  
 पृथक रहना 697 9  
**अकेला स्थान**  
 एकांत स्थान 697 4  
**अकेला होना**  
 अकेला होना 697 10 ⇨  
**अकेली**  
 अविवाहिता 234 14  
**अकेले**  
 एकातत 697.21  
 गुप्तत 824 29  
**अकेले अकेले**  
 एकातत 697 21  
**अकेले में**  
 गुप्तत 824 29  
**अकेला**  
 गजा 137 30  
**अकेला**  
 खरिया 673 19  
**अकोट**  
 असख्य 944 8  
 करोड़ाधिक 948 106  
 सुपारी 213 22  
**अकोतर ली**  
 शताधिक 948 104  
**अकोम**  
 क्रोधहीनता 372 4  
**अकोमल**  
 अभायुक 358.30  
 दुःकाय 160 12  
**अकोमलकाय**  
 दुःकाय 160.12  
**अकोमलकायता**  
 दुःकायता 160 5  
**अकोमलता**  
 खुरदुरापन 269.5  
**अकोमलांग**  
 दुःकाय 160.12  
**अकोमलांगता**  
 दुःकायता 160.5  
**अकोविद**  
 अविद्वान 320.4  
**अकोविदता**  
 अविद्वानता 320 1  
**अकोसना**  
 अकल्याण कामना करना 711.7  
 कोसना 373 17  
**अकोआ**  
 काकल 145.10  
**अकोटा**  
 अक्ष दंठ 1077.12

**अकोलुक**  
 अनासक्त 366.5  
**अककक बक्कक**  
 अटकन बटकन 476 1  
**अककल दाढ़**  
 अककल दाढ़ 144.8 ⇨  
**अकका**  
 माता 717 7  
**अककाधियाई लिपि**  
 कील लिपि 409 12  
**अककास**  
 फोटोग्राफर 405 15  
**अककासी**  
 फोटोग्राफ्री 405 13  
**अकखक**  
 कलहप्रिय 708 13  
 धृष्ट 734 20  
**अकखक**  
 धृष्टभाषी 432 14  
**अकखक**  
 स्पष्ट वक्ता 430 19  
**अकखकपन**  
 धृष्टता 734 8  
 स्पष्ट कथन 430.3  
**अकखक व्यवहार करना**  
 धृष्टता दिखाना 734.12  
**अकखी [अकखी]**  
 पूर्णांशिक 940 13  
**-अक**  
 सहित. प्रत्यय सूची 1006 5  
**अकृचर**  
 ईसवी मास सूची 43.4  
**अकृच**  
 इसलामी विवाह 799.3  
 प्रतिज्ञा 339.17  
 वचन 339 15  
 विवाह प्रतिज्ञा 799.40  
**अकृचनामा**  
 शपथ पत्र 339.21  
**अकृचबंदी**  
 इसलामी विवाह 799.3  
 विवाहन 799.6  
**अकृच**  
 असंगत 439.5  
 क्रमहीन 992.5  
 क्रमहीनता 992.1  
 गतिहीन 1042.12  
**अकृच वचन**  
 अकृच वचन 1009.4 ⇨  
**अकृचतः**  
 अकृचतः (चयित) 1009.23  
 क्रमहीनतः 992.7  
**अकृचतः (चयित)**  
 अकृचतः (चयित) 1009.23 ⇨  
**अकृचता**  
 क्रमहीनता 992.1  
**अकृचिक**  
 क्रमहीन 992.5



**अक्रामित**  
क्रमहीन 992.5  
**अक्रांत**  
अपराजित 913.6  
**अक्रिय**  
अप्रयत्नशील 490 9  
गतिविधिहीन 503.13  
विरामित 1048.6  
स्फूर्तिहीन 492 14  
**अक्रियकरण**  
विरामण 1048 2  
**अक्रियता**  
गतिविधिहीनता 503 5  
**अक्रिया**  
अकरण 505.2  
अघटन 75 3  
अप्रयत्न 490 1  
गतिविधिहीनता 503 5  
**अक्रुद्ध**  
क्रोधहीन 372 13  
**अक्रूर**  
अक्रूर 771.33 ⇨  
दयालु 834 12  
विष्णु 768.1  
**अक्रोध**  
क्रोधहीनता 372 4  
धर्म लक्षण सूची 737 29  
सहिष्णुता 872 4  
**अक्रोधी**  
क्रोधहीन 372 13  
**अक्रल**  
बुद्धि 301.1  
अक्रल का चक्कर में आना  
आश्चर्य होना 379.5  
अक्रल का दुरमन  
मूर्ख व्यक्ति 302 2  
अक्रल का पूरा (व्यंग्य)  
मूर्ख व्यक्ति 302 2  
अक्रल का मारा  
भ्रष्टाधी 302.10  
मूर्ख 302.7  
अक्रल की पुत्रिया (स्त्री)  
बुद्धिमान व्यक्ति 301.6  
**अक्रलकुल**  
परामर्शक 332.14  
**अक्रल दीक्षाना**  
विचार करना 330 13  
**अक्रलमर्ब**  
बुद्धिमान 301.21  
**अक्रलमंवी**  
बुद्धिमत्ता 301.5  
व्यवहार कुशलता 828.3  
**अक्रल लक्षणा**  
विचार करना 330.13  
**अक्रलांत**  
अनथका 493.13  
**अक्रलाति**  
अथकान 493.5

**अक्लिन्न**  
शुष्क 89 9  
**अक्लिष्ट**  
पठनीय 400 14  
बोध्य 518.17  
**अक्ली**  
बुद्धीय 301 20  
**अक्ली गदा लगाना**  
अटकल लगाना 947 16  
**अक्वणित**  
अध्वनित 295 5  
**अक्ष**  
अक्ष 1077 11 ⇨  
अक्ष दंड 1077 12  
गोटी 479.1  
चक्रण बिंदु 1033 8  
चीपड़ 478 6  
जोत गाड़ी 1071.28  
ज्ञानेन्द्रिय 268.5  
तराजू डंडा 962.21  
पासा 479 21  
पृथ्वी अक्ष 10 9  
**अक्षक**  
अक्ष दंड 1077 12  
**अक्ष कर्ण**  
कर्ण भुजा 968 31  
**अक्षकास्थि**  
हंसक, 133 11  
**अक्ष कील**  
अक्षाय कील 1077 14  
**अक्ष कीलक**  
अक्ष दंड 1077 12  
**अक्ष कुमार**  
अक्ष कुमार 784.5 ⇨  
राक्षस सूची 784 4  
**अक्ष क्रीडा**  
अक्ष दूत 481 3  
**अक्ष चिकित्सा (प्र)**  
ऐकुपक्थर 172.17  
**अक्षज**  
प्रत्यक्ष ज्ञान 305.5  
हीरा 96.28  
**अक्षजन**  
औक्सीजन 86.3  
**अक्षत**  
अनाहत 168 8  
अभजित 539.13  
कौमार्ययुक्त 234.15  
खील 200.8  
पूर्णांशिक 940.13  
**अक्षतता**  
कौमार्य 234.11  
पूर्णांशता 940.5  
**अक्षतबीर्य**  
ब्रह्मचारी 234.4  
शिव 767.1  
हिजडा 238.5

**अक्षता**  
ब्रह्मचारिणी 234 5  
हिजड़न 238 6  
**अक्षति**  
कल्याण 710.2  
**अक्षतिग्रस्त**  
अनाहत 168.8  
**अक्षत्री**  
भूमिहीन कृषक 553.25  
**अक्ष दंड**  
अक्ष दंड 1077 12 ⇨  
**अक्ष दर्शक**  
द्यूत निरीक्षक 481 12  
न्यायाधीश 874 15  
**अक्ष दर्शन**  
द्यूत निरीक्षण 481 7  
**अक्षदेवी**  
अक्ष द्यूतकर 481.9  
**अक्ष द्यूत**  
अक्ष द्यूत 481.3 ⇨  
**अक्ष द्यूतकर**  
अक्ष द्यूतकर 481 9 ⇨  
**अक्षधर**  
पहिया 1077 1  
बैल 127 13  
विष्णु 768.1  
**अक्षधुर**  
अक्ष दंड 1077 12  
**अक्ष निरीक्षक**  
द्यूत निरीक्षक 481 12  
**अक्ष निरीक्षण**  
द्यूत निरीक्षण 481.7  
**अक्ष पटल**  
न्यायाधीश आसन 874.13  
**अक्ष बिंदु**  
चक्र बिंदु 971 4  
**अक्षम**  
क्षमताहीन 488 15  
नपुंसक 238.18  
**अक्षमकृत**  
अक्षमकृत 488.17 ⇨  
**अक्षमता**  
क्षमताहीनता 488.4  
नपुंसकता 238.4  
**अक्षमा**  
क्षमाहीनता 873 1  
**अक्षमा दान**  
क्षमाहीनता 873.1  
**अक्षमाला**  
जपमाला 749.7  
रुद्राक्ष माला 228.36  
**अक्षमाली**  
शिव 767.1  
**अक्षम्य**  
अनुमति अयोग्य 338.34  
**अक्षय**  
अनश्वर 37.9  
अपरिवर्तनशील 533.10

ईश्वर 764 1  
ब्रह्म 764.24  
**अक्षय कुमार**  
अक्ष कुमार 784 5  
**अक्षयता**  
अनश्वरता 37 3  
अपरिवर्तनशीलता 533.2  
**अक्षय धाम**  
मोक्ष 257 1  
मोक्ष लोक 258 10  
**अक्षय लोक**  
मोक्ष लोक 258 10  
स्वर्ग 259 1  
**अक्षय वट**  
अक्षय वट 13.17 ⇨  
**अक्षर**  
अक्षर 410.2 ⇨  
अनश्वर 37 9  
अनश्वर 37 9  
अपरिवर्तनशील 533.10  
आकाश 2 1  
आत्मा 763 1  
ईश्वर 764 1  
खड्ग 924 3  
ब्रह्म 764 24  
ब्रह्मा 766 1  
विष्णु 768 1  
शाश्वत 37 7  
**अक्षर क्रम**  
अकारादि क्रम 99 5  
**अक्षर गणित**  
बीज गणित 953 4  
**अक्षर चंभु**  
सुलेखक 412.47  
**अक्षर जननी**  
लेखनी 416 1  
**अक्षर जीवी**  
साहित्य लेखक 448.2  
**अक्षरज्ञ**  
साक्षर 319 10  
**अक्षर ज्ञान**  
साक्षरता 319.6  
**अक्षरता**  
अनश्वरता 37.3  
अपरिवर्तनशीलता 533 2  
**अक्षरन्यास**  
हस्तलेख 412.6  
**अक्षर पूजक**  
कठमुल्ला 343.22  
**अक्षर माला**  
वर्णमाला 410.1  
**अक्षरमुख**  
छात्र 323.26  
विद्वान व्यक्ति 319.2  
**अक्षर मुष्टिका**  
अंगुली मुद्रा 464.34  
**अक्षर मुष्टिका कथन**  
चाँसठ कला सूची 397.4

## अक्षर मैत्री

अक्षर मैत्री  
 तुक 452.49  
 अक्षर योजन  
 टाइपसेटिंग 413.9  
 अक्षर लोप  
 अक्षर लोप 411.3 ⇨  
 अक्षर विन्यास  
 लिपि 409.1  
 वर्ण विन्यास 411.15  
 अक्षर व्यंजन  
 व्यंजन अक्षर 410.7  
 अक्षरशाः  
 पूर्णांशतः 940.15  
 प्रतिक्रमण 987.23  
 अक्षर स्वर  
 स्वर अक्षर 410.8  
 अक्षरांग  
 लिपि 409.1  
 स्थानरी 415.1  
 अक्षरांत क्रम  
 अक्षरांत क्रम 991.8  
 अक्षरारंभ  
 अक्षरारंभ 321.4 ⇨  
 विद्यारंभ संस्कार 798.23  
 शिक्षा आरंभ सूची 321.3  
 अक्षरी  
 वर्ण विन्यास 411.15  
 अक्षरीय  
 अक्षरीय 410.22 ⇨  
 अक्ष रेखा  
 अक्षरेखा रेखा 988.22  
 क्षितिज रेखा 988.21  
 अक्षरीटी  
 लिपि शैली 409.2  
 वर्णमाला 410.1  
 हस्तलेख 412.6  
 अक्षर्य  
 अक्षरीय 410.22  
 अक्षर्य (प्र)  
 अक्ष दंड 1077.12  
 अक्षलाग्न  
 अक्षाय 1077.13  
 अक्षलाग्न कील  
 अक्षाय कील 1077.14  
 अक्षवाट  
 द्यूतगृह 481.13  
 अक्ष वृत्त  
 अक्षरेखा रेखा 988.22  
 अक्षवृत्त  
 राशिचक्र 4.4  
 अक्ष सौम (प्र)  
 ऐक्स क्रोमोसोम 130.3  
 अक्ष स्थान  
 नाभि छिद्र 1077.6  
 अक्षान्त  
 क्षमाहीन 873.11  
 अक्षान्तर  
 अक्षान्त 10.13

अक्षांति  
 अक्षहिष्णुता 873.4  
 ईर्ष्या 709.1  
 क्षमाहीनता 873.1  
 अक्षांश  
 अक्षांश 10.13 ⇨  
 अक्षांश-देशांश  
 पता निर्देश 444.14  
 अक्षांश रेखा  
 अक्षांश रेखा 968.22 ⇨  
 अक्षाय  
 अक्षाय 1077.13 ⇨  
 अक्षाय कील  
 अक्षाय कील 1077.14 ⇨  
 अक्षांति  
 औक्तीजन 88.3  
 अक्षि  
 नेत्र 141.1  
 अक्षिकृत  
 नेत्र पुतली 141.5  
 अक्षि कोटर  
 नेत्र कोटर 141.3  
 अक्षिगत  
 समक्ष 1021.8  
 अक्षिगोल  
 नेत्र पुतली 141.5  
 अक्षित  
 दस लाख 948.78  
 अक्षिताल  
 नेत्रः लेंस 141.10  
 अक्षिद  
 अम्ल 87.8  
 अक्षि निवेश  
 निविष 50.13  
 अक्षि पटल  
 रेटिना 141.9  
 अक्षि विक्रम  
 तिरछी चितवन 284.6  
 नेत्र मुद्रा 484.32  
 अक्षुण्ण  
 अनष्ट 533.18  
 अपराजित 913.6  
 अभंजित 539.13  
 अधिमक्त 898.11  
 अक्षुण्णता  
 अनश्वरता 37.3  
 अपराजितता 913.2  
 अधिमक्तता 898.8  
 अक्षुधा  
 अक्षुधा 180.2 ⇨  
 अक्षुर मय  
 अक्षुरमज्द 764.13  
 अक्षेत्र  
 परती 552.6  
 अक्षेत्री  
 भूमिहीन कृषक 553.25  
 अक्षोभ्य  
 गंडा तावीज सूची 759.5

धैर्यशील 394.15  
 अक्षोम (प्र)  
 ऐक्स क्रोमोसोम 130.3  
 अक्षोहिणी  
 सेना 932.1  
 अक्स  
 चित्र 404.1  
 छाप 414.9  
 प्रतिबिंब 286.7  
 फोटो 405.1  
 अक्स उत्तारना  
 चित्रांकन करना 404.35  
 अक्सिलोमीटर (ऑ)  
 त्वरा मापी 958.29  
 अखंड  
 अद्वैत ईश्वर 764.6  
 अभंजित 539.13  
 अधिमक्त 898.11  
 ईश्वर 764.1  
 एकतापूर्ण 698.9  
 एकीकृत 698.10  
 तारतम्यपूर्ण 1049.12  
 परमाणु 78.10  
 पूर्णांशिक 940.13  
 सर्वांग 153.14  
 अखंड जप  
 अखंड जप 749.4 ⇨  
 अखंड जाप  
 अखंड जप 749.4  
 अखंडता  
 अधिमक्तता 898.6  
 ईश्वर. अद्वैतता 764.5  
 तारतम्य 1049.3  
 पूर्णांशता 940.5  
 शाश्वतता 37.1  
 अखंडनीय  
 अखंडनीय 326.19 ⇨  
 अखंड पाठ  
 अखंड पाठ 749.12 ⇨  
 अखंडवीर्य  
 शिव 767.1  
 अखंड सुहाग  
 अखंड सुहाग 803.12 ⇨  
 अखंड सौभाग्य  
 अखंड सुहाग 803.12  
 अखंडित  
 अभंजित 539.13  
 तारतम्यपूर्ण 1049.12  
 अखंडच  
 अभंजनशील 539.9  
 अखंडित  
 कुरुतीबाज 486.9  
 अखंडनी  
 माजीः रसा 201.24  
 अखंडार  
 समाचार पत्र 445.1  
 अखंडार नवीस  
 पत्रकार 445.8

अखंडार नवीसी  
 पत्रकारिता 445.7  
 अखंडार वाला  
 पत्र पत्रिका विक्रेता सूची 420.7  
 अखरना  
 अप्रिय होना 370.3  
 अखरा [अखरी]  
 कूटकृत 98.14  
 अखरोट  
 मेवा सूची 191.2  
 अखलाक  
 सच्चरित्रता 810.2  
 अखाका  
 अड़डा 696.10  
 अव्यवस्थित समूह 690.4  
 कुरुती मैदान 482.11  
 झोड़ा स्थल 482.1  
 जिमनेजियम 482.21  
 द्यूतगृह 481.13  
 धर्म 735.1  
 नट मंडली 473.13  
 मठ 745.7  
 रंगभूमि 471.13  
 अखाका  
 राज दरबार 889.14  
 अखाका  
 शास्त्र अभ्यास स्थल 930.3  
 सभा 694.1  
 साधु मंडली 691.6  
 साधु संत आश्रम 745.5  
 अखाका जनना  
 रसायन होना 468.33  
 अखाकिया  
 कुरुतीबाज 486.9  
 अखाकेबाजी  
 कुरुतीबाजी 486.8  
 अखाके में आना  
 अखाके में आना 917.5 ⇨  
 अखाके में उतरना  
 अखाके में आना 917.5  
 अखाके में उतरना 486.23 ⇨  
 अखात  
 झील 18.4  
 प्राकृतिक जलाशय 18.5  
 अखादे  
 अनखार 181.70  
 अखाद्य  
 अनाहार्य 197.23  
 अशीच (आहार) 198.14  
 अखाद्य आहार  
 अखाद्य आहार 197.2 ⇨  
 अखाद्यता  
 आहार अशीच 198.7  
 अखाद्य भोजन  
 अखाद्य आहार 197.2  
 अखिज  
 अनधका 493.13

<b>अखिल</b>	<b>अग</b>	<b>अगत्या</b>	<b>अगरचे</b>
अखिल देश स्तरीय 35 7	पर्यंत 16 3	अंततः 995 17	किंतु परंतु 507.17
पूर्णांशिक 940 13	सात उपमान सूची 948.30	अकस्मात् 69.13	<b>अगरसला</b>
ब्रह्मांड 1 1	सूर्य 8 1	<b>अगत्य</b>	त्रिपुरा राजधानी 28.37
<b>अखिलता</b>	स्थावर 1038 7	गतिहीन 1042.12	<b>अगरबत्ती</b>
पूर्णांशता 940 5	<b>अगच्छ</b>	निरचल 1038.8	अगर बत्ती 274.12
<b>अखिल देश स्तरीय</b>	वृक्ष 111 18	<b>अगत्यरता</b>	<b>अगर मगर</b>
अखिल देश स्तरीय 35 7 ⇨	<b>अगज</b>	गतिहीनता 1042 3	किंतु परंतु 507.17
<b>अखिल भूमि</b>	शिलाजीत 84 12	<b>अगदंकर</b>	परतुकता उक्ति सूची 339.54
विश्व स्तरीय 35 9	हाथी 127.38	स्वास्थ्यप्रद 161.6	बहानेबाजी 495.5
<b>अखिल विश्व</b>	<b>अग जग</b>	<b>अगदंकरता</b>	<b>अगर मगर करना</b>
ब्रह्मांड 1 1	ब्रह्मांड 1 1	स्वास्थ्यप्रदता 161 4	बहानेबाजी करना 495.10
विश्व स्तरीय 35 9	<b>अगठित कायता</b>	<b>अगदंकार</b>	<b>अगरा</b>
<b>अखिल विश्वीय</b>	शिथिलकायता 159.5	धिकित्तक 171.13	महापुरुष 839.3
विश्व स्तरीय 35 9	<b>अगकथत</b>	<b>अगद</b>	<b>अगरा [अगरी]</b>
<b>अखिलेश</b>	बहुत लबा 154.14	धिकित्सिद्ध 171 19	गण्य 852 9
ईश्वर 764 1	लबा तगड़ा 154 15	विष हरण विज्ञान 177.7	<b>अगराई</b>
<b>अच्छूट</b>	<b>अगकम बगकम</b>	स्यस्थ 161.5	उत्तमतमता 313.3
अनन्धर 37 9	रही 526 13	<b>अगदकरण</b>	<b>अगरिष्ठ</b>
असख्य 944 8	<b>अगकी</b>	धिकित्सन 171.8	अस्निग्ध 197.17
<b>अखेद</b>	अर्गल 609.18	<b>अगद तंत्र</b>	<b>अगरिष्ठ आहार</b>
प्रसन्नतापूर्वक 381 11	<b>अगकीपन</b>	आयुर्वेद. आठ अंग सूची 172.7	कच्चा खाना 197.3
शोकहीनता 382 9	अगेतीपन 62 9	विष हरण विज्ञान 177 7	<b>अगरी</b>
<b>अखेबर</b>	<b>अगद</b>	<b>अगन</b>	महान स्त्री 839 4
अक्षय वट 13 17	अनगद 545 28	अग्नि 106 1	<b>अगर</b>
<b>अखोर</b>	अपरिष्कृत 533.12	अग्नि ज्वाला 106 8	अगर 274.11 ⇨
कूड़ा करकट 214 4	<b>अगणनः</b>	उष्णता 104 1	<b>अगर बत्ती</b>
<b>अखोह</b>	असख्य 944.8	<b>अगम</b>	अगर बत्ती 274.12 ⇨
असमतल भूमि 987 2	नगण्य 853 10	अगम्य 519 25	<b>अगल</b>
<b>अखौटा</b>	<b>अगणनीयता</b>	अप्रयेर्य 519 24	अगल बाल
घक्की धुरी 560 14	असख्यता 944 3	वृक्ष 111.18	दक्षिण वाम पार्श्व में 997 24
<b>अख्झाह</b>	<b>अगणनीय संख्या</b>	<b>अगमन</b>	निकट में 31.9
शाबाशी उद्गार सूची 841 40	असीम संख्या 949 6	स्थायरता 1038.1	पड़ोस 31 3
<b>अक्षितयार</b>	<b>अगणिततः</b>	<b>अगमनशील</b>	पार्श्वधरतः 696.28
अधिकार 897 1	असंख्यतः 944 13	स्थावर 1038.7	<b>अगला</b>
<b>अख्यात</b>	<b>अगणितता</b>	<b>अगम्य</b>	गृहपति 235.5
अख्यात 848.5 ⇨	असख्यता 944 3	अगम्य 519 25 ⇨	<b>अगला [अगली]</b>
अप्रतिष्ठित 850 5	<b>अगण्य</b>	अगाध्य 984.10	अगुआ 346.3
<b>अख्याति</b>	असंख्य 944.8	अज्ञेय 306 13	अगेती 62.21
अख्याति 848.2 ⇨	नगण्य 853 10	अनुपलब्ध 942 18	अग्र 994.18
<b>अगंड</b>	<b>अगण्यता</b>	अपारगम्य 1097.19	आगामी 1093.13
रुंड 147 2	असंख्यता 944.3	अप्रयेर्य 519.24	उत्तम 313.13
<b>अगंता [अगंती]</b>	<b>अगत</b>	<b>अगम्यगा</b>	उत्तर कालीन 60.13
स्थावर 1038 7	अध्यतीत 74 4	व्यभिचारिणी 806 11	गण्य 852.9
<b>अगंतुक</b>	<b>अगति</b>	<b>अगम्यता</b>	निकटस्थ 31 7
स्थावर 1038 7	अघटन 75 3	अगम्यता 519.9 ⇨	पूर्व कालीन 60.14
<b>अगंध</b>	गतिहीन 1042.12	अज्ञेयता 306.5	पूर्वज 727.20
गंधहीन 273 14	निरचलता 1038.2	अपारगम्यता 1097.6	प्रदीप 303.22
<b>अगंधीर</b>	विकल्पहीन 516.5	अप्रयेर्यता 519.8	पविष्णु 67.8
चंचल 860.24	विकल्पहीनता 516.3	<b>अगम्य मार्ग</b>	<b>अगला जन्म</b>
<b>अगंधीरता</b>	स्थावरता 1038.1	अचलनीय मार्ग 1063.3	भावी जन्म 248.6
अस्थिरचितता 355.3	<b>अगतिक</b>	<b>अगम्यागामी</b>	<b>अगला झुकाव</b>
चंचलता 860.8	गतिहीन 1042.12	व्यभिचारी 806.10	अगला झुकाव 1073.21 ⇨
<b>अगंधीर नाटक</b>	साधनहीन 558.20	<b>अगर</b>	<b>अगला डेक</b>
कोमेडी 463.4	स्थावर 1038.7	परंतुकतः 339 50	अगला डेक 1073.28 ⇨
<b>अग-</b>	<b>अगतिकता</b>	यदि 507.12	<b>अग्रता</b>
अग्र 994.18	गतिहीनता 1042.3	<b>अगरचे</b>	अग्रता 994.7
		यद्यपि 507.14	प्रधानता 852.3

## अगला पिछला

अगला पिछला  
आरंभिक अंतिम 994 14  
अगला पिछला [अगली पिछली]  
अग्र परच 994 15  
अगला या पिछला जन्म  
अन्य जन्म 248 4  
अगला या पिछला साल  
परसाल 42 15  
अगली चौकी  
अग्र चौकी 933 10  
अगली पंक्ति  
सेनाग्र 933 1  
अगली सुबह  
हैंगओवर 211 4  
अगले  
पूर्वज समष्टि 727 21  
अगले (बहु)  
पूर्वज 727 20  
अगले अंक मे  
धारायाहितत 447 27  
अगलीसी  
ओसाई उडता अत्र 548 23  
हल अंकुड़ी 563 9  
अगवा  
अपहत 862 7  
अगवाइ  
अगला डैक 1073 28  
अगवाइ  
अग्रभाग 994 9  
अगवाइ पिछवाइ  
अग्रता पश्चता 994 2  
अगवान  
स्वागत कर्ता 1059 27  
अगवानी  
अभ्यागम 1059 11  
वरयात्रा स्वागत 800 44  
स्वागत 1059 1  
अगवानी करना  
अभ्युदगत होना 1059 24  
अगवार  
अग्र आहार 641 11  
ओसाई उडता अत्र 548 23  
अगवारा  
बाहर वाला आँगन 604.5  
अगवारी  
कृषि रक्षण 550.1  
अगवासी  
ओसाई उडता अत्र 548 23  
अगस्त  
ईसवी मास सूची 43 4  
अगस्त्य  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
अगहन  
मार्गशीर्ष 43 15  
अगहनी  
छरीफ फ़सल 547 7  
धान सूची 187.12

अगाऊ  
अगेती 62 21  
अग्र 994 18  
पुरोगामी 1096 9  
अगाऊपन  
अगेतीपन 62 9  
अगाइ  
छज्जा 611 27  
निगाली 213 13  
अगाइ  
अग्रभाग 994 9  
अगाइ  
अग्रतः 994 22  
अग्रभाग 994 9  
अनिकट भविष्य मे 36 36  
आगे आगे 1096 14  
सामना पल्ला 585 72  
अगाइपन  
अग्रता 994 7  
अगाइ पिछाइ  
अग्रतः पश्चत 994 19  
अगाध  
अगाध्य 984 10  
अज्ञेय 306 13  
असख्य 944 8  
असमाप्य 943 12  
गहरा गडडा 15 2  
दुर्बोध्य 519 23  
अगाधता  
असमाप्यता 943 4  
अगाध्य  
अगाध्य 984 10 ⇨  
अगाय  
ईख नीरस ऊपरी भाग 526 4  
अगास  
द्वाराय चबूतरा 610 10  
अगाह  
अगाध्य 984 10  
अज्ञेय 306 13  
दुर्बोध्य 519 23  
अगि  
अग्नि 106 1  
अगिन  
अग्नि 106 1  
अगिन गोला  
बारूद गोला 927 11  
अगिनत  
असख्य 944 8  
अगिनबान  
राकेट 1075 1  
अगिन बोट  
नौका सूची 1072 3  
वाष्प नौका 1072.11  
अगिया कोइलिया  
असुरादि जोड़ी सूची 783 4  
अगियाना  
कुद होना 373 15

अगिया बैताल  
अगिया बैताल 786 12  
बड़वा दीप्ति 287 18  
श्मशान दीप्ति 287 19  
अगियारी  
अग्नि पात्र 109 1  
पारसी मंदिर 45 38  
अगिया बैताल  
अगिया बैताल 786 12 ⇨  
अगिर  
अग्नि 106 1  
अगिरौका  
देयता 772 1  
अगिहाना  
अग्नि पात्र 109 1  
अलाय 109 3  
अगीठा  
अग्रभाग 994 9  
अगीत पछीत  
अग्रतः पश्चत 994 19  
अग्रता पश्चता 994 2  
अगुफितता  
असघन बुनावट 576 14  
अगुआ  
अगुआ 346.3 ⇨  
गृहपति 235 5  
नेता 346 2  
नौकायन पाइलट 1080 27  
मार्ग प्रदर्शक 1098 4  
मुखिया 852 7  
विवाह घटक 801 1  
अगुआई  
नेतृत्व 346 1  
मार्ग प्रदर्शन 1098.3  
वरयात्रा स्वागत 800 44  
स्वागत 1059 1  
अगुण  
दुर्गुण 314 4  
निराकार 967 13  
अगुणइ  
अगुणइ 306 18 ⇨  
अगुणइता  
अगुणइता 306 9 ⇨  
अगुणता  
निराकारता 967 2  
अगुणी  
अयोग्य 304.6  
दुर्गुणी 314 8  
सामान्य 311 3  
अगुप्त  
अगुप्त 822.28 ⇨  
रहस्यहीन 822 22  
अगुप्ततः  
अगुप्ततः 822.34 ⇨  
अगुप्तता  
अगुप्तता 822.9 ⇨  
प्रकटता 822.6  
स्पष्टता 822 1

अगुरु  
अगुरु 274 11  
स्वशिक्षित 321 48  
हलका [हलकी] 963.14  
अगुइ  
बोध्य 518 17  
रहस्यहीन 822.22  
अगुइ  
वानप्रस्थ आश्रमी 233 10  
अगुइ  
हिमालय 17 7  
अगेती  
अगेती 62.21 ⇨  
अगेती फ़सल 547 9  
अगेतीपन  
अगेतीपन 62.9 ⇨  
अगेती फ़सल  
अगेती फ़सल 547.9 ⇨  
अगेह  
आवासहीन 617.11  
वानप्रस्थ आश्रमी 233 10  
संन्यासी 790.11  
अगेहा  
संन्यासिनी 790 12  
अगेहिनी  
संन्यासिनी 790.12  
अगेचर  
असमक्ष 1022 6  
इंद्रियातीत 306.14  
ईश्वर 764 1  
निराकार 967.13  
ब्रह्म 764.24  
अगेचर ज्ञान  
परोक्ष ज्ञान 305.6  
अगेचरता  
अदृश्यता 282 10  
निराकारता 967.2  
अगेट  
आइ 605.1  
शरण स्थल 910.5  
अगेटना  
घेरना 604.22  
बंदी बनाना 868.29  
अगेपन  
प्रकटता 822 8  
अगेरना  
कृषि रक्षा करना 550.8  
पहरेदारी करना 908.18  
प्रतीक्षा करना 1057.5  
अगेरिया  
कृषि रक्षक 550.2  
अगीकी  
अग्रिम देय 634.7  
अगीर  
अश्वेत 289.66  
काला 289.37  
अगीर जातियाँ  
अश्वेत जाति 730.8

**अगौरव**  
गौरवहीनता 850.2  
**अगौरा**  
ईख नीरस ऊपरी भाग 526.4  
**अगौरी**  
ईख नीरस ऊपरी भाग 526.4  
**अग्नयुत्पात**  
उल्का पात 3.8  
**अग्नायी**  
त्रेतायुग 40.13  
स्वाहा 774.104  
**अग्नि**  
अग्नि 106.1 ⇨  
अग्नि 773.1 ⇨  
अग्नि ज्वाला 106.8  
उष्णता 104.1  
कर्मसाक्षी देवता सूची 772.18  
चिताग्नि 254.13  
तीन उपमान सूची 948.22  
पचभूत सूची 78.9  
पाचव्य 129.7  
पित्त 215.14  
वैदिक त्रिमूर्ति सूची 765.6  
**अग्नि (दे.)**  
अग्नि 773.1  
**अग्नि (पृथ्वी)**  
त्रिदेव सूची 772.31  
**अग्नि (वेद)**  
रुद्र 767.34  
**अग्नि (सप्तजिह्व)**  
सात उपमान सूची 948.30  
**अग्नि उत्कीर्णन**  
दाह उत्कीर्णन 406.23  
**अग्नि उद्दीपन**  
अग्नि उद्दीपन 107.4 ⇨  
**अग्नि उद्दीपन करना**  
अग्नि उद्दीपन करना 107.12 ⇨  
**अग्नि उद्दीपन होना**  
अग्नि उद्दीपन होना 107.11 ⇨  
**अग्निक्षण**  
धिगारी 106.11  
**अग्नि कर्म**  
शवदाह 253.4  
**अग्निकांड**  
अग्निकांड 108.5 ⇨  
**अग्नि कुंड**  
यज्ञ वेदी 753.24  
विवाह वेदी 802.30  
**अग्नि कुमार**  
स्कंद 773.50  
**अग्निकेतु**  
शिव 767.1  
**अग्नि कोण**  
दक्षिण पूर्व 29.17  
**अग्निहोत्री**  
आतिशबाणी 56.5  
**अग्निखंड**  
अंगारा 108.12

**अग्निगर्भा**  
पृथ्वी 9.1  
**अग्निघ्न**  
अग्नि प्रतिष्ठा 753.5  
अग्न्याधान 107.1  
**अग्निजन्मा**  
विष्णु 768.1  
**अग्निजात**  
स्यर्ण 95.4  
**अग्निजिह्व**  
वराह अवतार 769.34  
**अग्नि जिह्वा**  
अग्नि जिह्वा 106.9 ⇨  
अग्नि ज्वाला 106.8  
**अग्नि जिह्वा सूची**  
अग्नि जिह्वा सूची 106.10 ⇨  
**अग्निजीवी**  
लोहार 565.15  
**अग्नि ज्वाला**  
अग्नि ज्वाला 106.8 ⇨  
**अग्नित्र**  
अग्नित्र 107.5 ⇨  
**अग्नित्र (प्र)**  
अग्नित्र 107.5  
**अग्नि त्रय**  
यज्ञाग्नि 106.4  
**अग्निद**  
अग्न्याशय 132.9  
शवदाह कर्ता 253.37  
**अग्निद ग्रंथि**  
अग्न्याशय 132.9  
**अग्निदान**  
अग्न्याधान 107.1  
शवदाह 253.4  
**अग्निदाह**  
दहन 108.1  
शवदाह 253.4  
**अग्निदिव्य**  
अग्नि परीक्षा 876.3  
**अग्निदीपन**  
पाचकता वर्धन 178.4  
**अग्निदूत**  
देवता 772.1  
**अग्नि देना**  
शवदाह करना 253.31  
**अग्निदेव**  
पारसी धर्मावलंबी 736.27  
**अग्नि देवता**  
अग्नि 106.1  
**अग्निधान**  
अग्नि पात्र 109.1  
**अग्नि नाडी**  
सुषुम्ना नाडी 757.5  
**अग्निनेत्र**  
देवता 772.1  
**अग्नि परिक्रमा**  
सप्तपदी 800.24

**अग्नि परीक्षा**  
अग्नि परीक्षा 876.3 ⇨  
कठिन परीक्षा 322.12  
**अग्नि पात्र**  
अग्नि पात्र 109.1 ⇨  
**अग्नि पुराण**  
पुराण सूची 740.17  
**अग्नि पूजक**  
पारसी धर्मावलंबी 736.27  
**अग्नि प्रणयन**  
अग्नि प्रतिष्ठा 753.5  
**अग्नि प्रतिष्ठा**  
अग्नि प्रतिष्ठा 753.5 ⇨  
अग्न्याधान 107.1  
**अग्नि प्रोदीपक**  
अग्नि प्रोदीपक 107.15 ⇨  
**अग्निबाण**  
राकेट 1075.1  
राकेट 927.19  
**अग्निबाहु**  
धूम्र 106.19  
**अग्निभू**  
स्कंद 773.50  
**अग्नि मंदिर**  
पारसी मंदिर 745.38  
**अग्नि मणि**  
आतशी शीशा 283.7  
चकमक 107.6  
**अग्निमुख**  
अग्निहोत्री 753.11  
देवता 772.1  
भूत 786.1  
**अग्नि मृत्यु**  
अग्नि मृत्यु दंड 871.3  
**अग्नि. मृत्यु दंड**  
अग्नि. मृत्यु दंड 871.3 ⇨  
**अग्नि रक्षक**  
अग्निहोत्री 753.11  
**अग्निरजा**  
बीर बहुटी 122.32  
**अग्नि रोधन**  
अग्नि रोधन 920.6 ⇨  
**अग्निर्लिग शास्त्र**  
चेष्टा शास्त्र 262.6  
**अग्नि वंश**  
अग्नि वंश 731.21 ⇨  
**अग्नि वधु**  
स्वाहा 774.104  
**अग्नि वर्धक**  
अग्नि प्रोदीपक 107.15  
पाचकता वर्धक 178.9  
**अग्नि वर्धन**  
अग्नि वर्धन 107.3 ⇨  
**अग्नि वर्ध**  
बमबारी 905.28  
**अग्नि वारण**  
अग्नि रोधन 920.6

**अग्निवाह**  
नर बकरी 127.23  
**अग्नि शमन**  
अग्नि शमन 108.6 ⇨  
**अग्नि शर्मा (पूर्व नाम)**  
वाल्मीकि 789.19  
**अग्नि शलाका**  
माघिस 107.7  
**अग्नि शामक**  
अग्नि शामक 108.19 ⇨  
**अग्नि शामक गाड़ी**  
दमकल 108.8  
**अग्नि शामित्र**  
अग्नि शामित्र 108.7 ⇨  
**अग्नि शामित्र (प्र)**  
अग्नि शामित्र 108.7  
**अग्निशाला**  
श्मशान 254.9  
**अग्नि शिखर**  
अग्नि ज्वाला 106.8  
**अग्नि शिखा**  
अग्नि ज्वाला 106.8  
**अग्नि शुद्धि**  
अग्नि परीक्षा 876.3  
**अग्निशंखर**  
केसर 274.16  
स्यर्ण 95.4  
**अग्निष्टोम**  
यज्ञ 753.1  
**अग्निष्टोम यज्ञ**  
यज्ञ सूची 753.2  
**अग्निष्ठ**  
तया 682.3  
**अग्नि संस्कार**  
शवदाह 253.4  
**अग्नि सखा**  
धूम्र 106.9  
वायु 85.1  
**अग्नि सात**  
पूर्ण दग्ध 108.16  
**अग्नि स्थापना**  
अग्नि प्रतिष्ठा 753.5  
**अग्नि स्फुलिंग**  
धिगारी 106.11  
**अग्निहोत्र**  
आहुति दान 753.6  
**अग्निहोत्र मंत्र**  
मंत्र सूची 741.4  
**अग्निहोत्री**  
अग्निहोत्री 753.11 ⇨  
**अग्नीध्र**  
इत्सा 766.1  
**अग्नीध**  
अग्नीध 106.23 ⇨  
**आग्नेयास्त्र** 927.1  
**अग्न्याधान**  
अग्नि प्रतिष्ठा 753.5

## अग्न्याधानित

- अग्न्याधान 107 1 ⇨  
**अग्न्याधानित**  
 अग्न्याधानित 107 13 ⇨  
**अग्न्याशय**  
 अग्न्याशय 132 9 ⇨  
**अग्न्या**  
 अनुभवाहीन सरल 817 9  
**अग्रथ**  
 ग्रंथिहीन 574 10  
**अग्रथित**  
 ग्रंथिहीन 574 10  
**अग्रथितता**  
 ग्रंथिहीनता 574 1  
**अग्र-**  
 अग्र 994 18  
**अग्र**  
 अग्र 994 18 ⇨  
 अग्रत 994 22  
 अधिक 944 5  
 आरभ 994 3  
 आरभ मे 994 20  
 गण्य 852 9  
 नोक 270 8  
 पहला [पहली] 948 85  
 पूर्व कालीन 60 14  
 प्रथमत 505 38  
 शिखर 982 6  
**-अग्र (जैसे: सेनाग्र)**  
 अग्रभाग 994 9  
**अग्र आहार**  
 अग्र आहार 641 11 ⇨  
**अग्रकरण**  
 अग्रकरण 1095 2 ⇨  
**अग्रकूपः चोटी**  
 अगला डैक 1073 28  
**अग्रकृत**  
 अग्रकृत 1095 15 ⇨  
**अग्रकेश**  
 अग्रकेश 137 3 ⇨  
**अग्रगता**  
 पुरोगामी 1096 9  
**अग्रगण्य**  
 प्रतिष्ठित 849 15  
 प्रधान 852 10  
**अग्रगण्यता**  
 प्रधानता 852 3  
**अग्रगत**  
 पुरोगत 1096 8  
 प्रगत 1095 13  
**अग्रगमन**  
 पुरोगमन 1096 1  
 मार्ग प्रदर्शन 1098.3  
**अग्रगामिता**  
 प्रगति 1095 1  
 प्रगतिवाद 884 16  
**अग्रगामी**  
 अगुआ 346.3  
 अग्रगामी 344.7 ⇨
- पुरोगामी 1096 9  
 प्रगति कर्ता 1095 14  
**अग्रगामी मार्ग प्रदर्शक**  
 अग्रगामी मार्ग प्रदर्शक 1098 5 ⇨  
**अग्रगामी सेना**  
 अग्रगामी सेना 933 2 ⇨  
**अग्रघर**  
 अग्रगामी मार्ग प्रदर्शक 1098 5  
**अग्रघारी**  
 अग्रगामी मार्ग प्रदर्शक 1098 5  
**अग्र चौकी**  
 अग्र चौकी 933 10 ⇨  
**अग्रज**  
 बड़ा भाई 723 9  
 ब्राह्मण 731 13  
 विष्णु 768 1  
**अग्रज [अग्रजा]**  
 अग्रज [अग्रजा] 723 8 ⇨  
**अग्रजता**  
 अग्रजता 723 7 ⇨  
**अग्रजन्मा**  
 बड़ा भाई 723 9  
 ब्राह्मण 731 13  
**अग्रजन्मा [अग्रजन्मी]**  
 अग्रज [अग्रजा] 723 8  
**अग्रजा**  
 बड़ी बहन 723 10  
**अग्रजात [अग्रजाता]**  
 अग्रज [अग्रजा] 723 8  
**अग्रजातता**  
 अग्रजता 723 7  
**अग्रजाति**  
 ब्राह्मण 731 13  
**अग्रणी**  
 अगुआ 346 3  
 उत्तम 313 13  
 नेता 346 2  
 महापुरुष 839 3  
 विष्णु 768 1  
**अग्रतः**  
 अग्रतः 994.22 ⇨  
 प्रथमतः 505.38  
**अग्रतः पश्चतः**  
 अग्रतः पश्चतः 994.19 ⇨  
**अग्रता**  
 अग्रता 994.7 ⇨  
 उत्तमतमता 313 3  
 गण्यता 852 2  
 पूर्वता 60 10  
 प्रधानता 852 3  
**अग्रता पश्चता**  
 अग्रता पश्चता 994.2 ⇨  
**अग्रथित**  
 अग्रथित 528 6  
**अग्रदर्शी**  
 प्रगति कर्ता 1095 14  
**अग्रदल**  
 अग्रगामी सेना 933 2
- अग्रदूत**  
 अग्रिम संदेश वाहक 443 5  
**अग्रदृश्य**  
 फोरग्राउंड 404 20  
**अग्र निरूपण**  
 प्रारब्ध कथन 261 3  
**अग्र पश्च**  
 अग्र पश्च 994 15 ⇨  
**अग्रपूज्य**  
 गणेश 773 22  
**अग्रप्रेषण**  
 अग्रप्रेषण 1054 2 ⇨  
**अग्रप्रेषित**  
 अग्रप्रेषित 1054 17 ⇨  
**अग्रवीज**  
 पेड़ पौधा कलम 113 7  
**अग्रभाग**  
 अगला डैक 1073 28  
 अग्रभाग 994 9 ⇨  
 फोरग्राउंड 404 20  
 सेनाग्र 933 1  
**अग्रभू**  
 अग्रभूमि 994 8  
 लक्ष्य चक्र 931 6  
**अग्रभूम**  
 अग्रभूमि 994 8  
**अग्रभूमि**  
 अग्रभूमि 994 8 ⇨  
 फोरग्राउंड 404 20  
 भवन छत 611 13  
 लक्ष्य चक्र 931 6  
**अग्रभूमिय**  
 अग्र 994 18  
**अग्रमंच**  
 नौकाग्र 1073 23  
 मद्याग्र 471 15  
**अग्रमहिषी**  
 राजा प्रधान पत्नी 882 18  
**अग्रमांस**  
 हृदय 146 5  
**अग्रयान**  
 अग्रयान 1070.8 ⇨  
 सेनाग्र 933 1  
**अग्रयोद्धा**  
 अग्रयोद्धा 934 17 ⇨  
**अग्रयोधी**  
 अग्रयोद्धा 934 17  
**अग्रलेख**  
 संपादकीय लेख 445 24  
**अग्रवर्तिता**  
 अग्रता 994 7  
 पूर्व कालीनता 80.8  
 प्रधानता 852.3  
**अग्रवर्ती**  
 अग्र 994.18  
 पूर्व कालीन 80 14  
 प्रधान 852 10
- अग्रशाला**  
 बरामदा 615 6  
**अग्र संकेत**  
 शकुन 262 1  
**अग्र संक्षेपण**  
 फोरशोर्टनिंग 404 21  
**अग्रसर**  
 उन्नतिशील 534 11  
 प्रगति कर्ता 1095 14  
**अग्रसर करना**  
 आगे करना 1095 8  
**अग्रसरण**  
 प्रगति 1095 1  
**अग्रसर होना**  
 प्रगति करना 1095 7  
**अग्रसारक**  
 अग्रसारक 1095 16 ⇨  
**अग्रसारण**  
 अग्रकरण 1095 2  
 अग्रप्रेषण 1054 2  
**अग्रसारित**  
 अग्रप्रेषित 1054 17  
**अग्रसारी**  
 अग्रगामी मार्ग प्रदर्शक 1098 5  
**अग्रस्थ करना**  
 आगे करना 994 13  
**अग्रस्थता**  
 अग्रता 994 7  
**अग्रस्थ होना**  
 आगे होना 994 12  
**अग्रस्थान**  
 अग्रभूमि 994 8  
**अग्रहण**  
 अनादान 639 5  
**अग्रहस्त**  
 अग्रहस्त 149 8 ⇨  
**अग्रहायण**  
 मार्गशीर्ष 43 15  
**अग्रहार**  
 धर्मार्थ भूमि 553 7  
 ब्राह्मण देय उपज 647 28  
**अग्रहारता**  
 प्रथम देयता 634.9  
**अग्रहीत**  
 अनादत्त 639.22  
**अग्रारा**  
 अग्रभाग 994 9  
**अग्रारु**  
 अग्रारु 971.2 ⇨  
 केंद्र बिंदु 971 1  
**अग्रधिकार**  
 प्रधानता 852.3  
**अग्रधिकारी**  
 प्रधान 852.10  
**अग्रानीक**  
 सेनाग्र 933.1  
**अग्रारान**  
 चढ़ावा 750.12

जीतार्थ आहार 183 28  
**अप्राप्तन**  
 सम्मान स्थान 854 7  
**अप्राहार**  
 अग्र आहार 641 11  
**अप्राह्य**  
 अनाहार्य 197 23  
 अविश्वसनीय 341 6  
 तर्कहीन 325 22  
**अप्राह्यता**  
 अज्ञेयता 306 5  
**अग्रिम**  
 अग्र 994 18  
 अग्रिम देय 634 7  
 पुरोगामी 1096 9  
**अग्रिमता**  
 अग्रिम देयता 634 6  
**अग्रिम दस्ता**  
 अग्रगामी सेना 933 2  
**अग्रिम दायद**  
 अग्रिम देय 634 7  
**अग्रिम देय**  
 अग्रिम देय 634.7 ⇨  
**अग्रिम देयता**  
 अग्रिम देयता 634.6 ⇨  
**अग्रिम देय व्यय**  
 रोकड़ अग्रिम 630 11  
**अग्रिम धन**  
 अग्रिम धन 634.8 ⇨  
**अग्रिम रोकड़**  
 रोकड़ अग्रिम 630.11  
**अग्रिम संदेश वाहक**  
 अग्रिम संदेश वाहक 443.5 ⇨  
**अग्रिय**  
 अगती फसल 547 9  
 उत्तम 313 13  
**अग्रसंरिक्त**  
 नीकायन पाइलट 1080 27  
**अग्लानि**  
 स्फूर्ति 491 2  
**अघ**  
 दुःख 391 1  
 दुर्जन 818 5  
 पाप 812 1  
 पापी 812 12  
 संकट 909 1  
**अघघ्न**  
 पाप नाशक 813 11  
 विष्णु 788.1  
**अघट**  
 अघटित 75 14  
 असंगत 439 5  
 असंभय 68.14  
**अघटन**  
 अघटन 75.3 ⇨  
 अनस्तित्व 247 1  
**अघटना**  
 अघटना 75.2 ⇨

**अघटनीय**  
 अघटनीय 75 15 ⇨  
**अघटित**  
 अघटित 75 14 ⇨  
 अरघित 528 6  
 असंगत 439 5  
 असंभय 68 14  
**अघटित घटना पटीयसी**  
 कठिन कार्यक्षम 487 28  
**अघटित रहना**  
 घटित न होना 75 9  
**अघटव**  
 अघटनीय 75 15  
**अघन**  
 असघन 80 10  
**अघ नाश**  
 पाप नाश 813 2  
**अघनिष्ठ**  
 अघनिष्ठ 697 17 ⇨  
**अघनिष्ठता**  
 अघनिष्ठता 697 6 ⇨  
**अघ भोजन**  
 इकलखुरापन 183.2  
**अघभोजी**  
 इकलखुरा [इकलखुरी] 183 39  
**अघमर्षण मंत्र**  
 मंत्र सूची 741 4  
**अघर्म**  
 अनुष्ण 104 19  
 शीतल 105 19  
**अघल**  
 पाप नाशक 813 11  
**अघविष**  
 विषधर सर्प 123.14  
**अघशंस**  
 चोर 864 3  
 दुर्जन 818 5  
**अघाए**  
 तृप्तत 361.19  
**अघात**  
 असंख्य 944 8  
 भरपेट 182 17  
**अघाना**  
 तृप्त होना 361.11  
 भरपेट खाना 182 10  
**अघाया [अघाई]**  
 तृप्त 361.16  
 भरे पेट वाला 182.13  
**अघारि**  
 कृष्ण 771.1  
 पाप नाशक 813 11  
**अघिया**  
 घोला 585.24  
**अघी**  
 पापी 812.12  
**अघोर**  
 असुर सूची 783.8  
 शिव 767.1

शिव चार मूर्ति सूची 746 10  
**अघोर नाथ**  
 शिव 767.1  
**अघोर पंथ**  
 अघोर पंथ 737 55 ⇨  
**अघोर पथ**  
 अघोर पथ 737 55  
**अघोर मार्ग**  
 अघोर पंथ 737.55  
**अघोर मुख**  
 शिव मुख सूची 767 6  
**अघोरी**  
 घृणित 370 6  
 मलिन 217 6  
**अघोरी तानना**  
 भरपेट खाना 182 10  
**अघ्य**  
 अहतव्य 250 19  
**अघ्या**  
 गाय 127 10  
**अघ्य**  
 बलि वस्तु 754 2  
**अघंचल**  
 अघंचल 860 25 ⇨  
 धैर्यशील 394.15  
 निश्चल 1038 8  
 शिव 767 1  
 समयी 808.17  
**अघंचलता**  
 तल्लीनता 331 6  
 ध्यान 331 1  
**अघंड**  
 अप्रबल 488 14  
 कुठित 270 24  
**अघंडता**  
 अप्रबलता 488 3  
**अघंड्रा**  
 अमावस रात 48 5  
**अघंभा**  
 आश्चर्य 379 1  
 जिज्ञासा 305.22  
 विलक्षणता 312 3  
 विलक्षण वस्तु 312.6  
**अघंभित**  
 आश्चर्यित 379 8  
**अघक**  
 अत्यधिक 944.7  
 असंख्य 944.8  
 असमाप्य 943 12  
**अघकचाना**  
 आश्चर्य होना 379.5  
 चौकना 379 6  
 निरुत्तर होना 335.7  
**अघकचाया [अघकचाई]**  
 आश्चर्यित 379.8  
**अघकचाइट**  
 आश्चर्यितता 379.2

**अघकन**  
 अघकन 585.46 ⇨  
**अघकां**  
 अकस्मात् 69 13  
**अघकके में**  
 विचारहीनता 330.30  
**अघकक यान**  
 वहन यान 1071 19  
**अघककित अक्षरदंड**  
 अक्ष दंड 1077 12  
**अघककिलता**  
 सुलझापन 574 6  
**अघकतुर**  
 अप्रवीण 304 9  
 फूहड़ 403 5  
**अघकपल**  
 अघंचल 860 25  
**अघकपली**  
 नटखटपन 860 10  
**अघकभीन**  
 विलक्षण वस्तु 312 6  
**अघकर**  
 अनश्वर 37 9  
 अपरिवर्तनशील 533.10  
 स्थावर 1038.7  
**अघकरज**  
 आश्चर्य 379 1  
 विलक्षणता 312 3  
 विलक्षण वस्तु 312.6  
**अघकरज भरा**  
 आश्चर्यजनक 379.9  
 विलक्षण 312.16  
**अघकरम**  
 अनतिम 995 13  
**अघकरित**  
 अभुक्त 364 9  
**अघकरितार्थ**  
 अघकरितार्थ 439.9 ⇨  
**अघकरितार्थता**  
 अघकरितार्थता 439.8 ⇨  
**अघकरित**  
 अख्यात 848.5  
**अघकल**  
 अनश्वर 37 9  
 अपरिवर्तनशील 533.10  
 अप्रयत्नशील 490.9  
 अघिचल 500.15  
 आत्मा 763 1  
 ईश्वर 764 1  
 दीवार: चुँटी 1016.17  
 धैर्यशील 394.15  
 पर्यंत 16.3  
 पर्यताकार ढेर 686.8  
 सात: उपमान सूची 948.30  
 स्थावर 1038.7  
**अघकलता**  
 अघिचलता 500.5  
 गति रुद्धता 1047.3

## अचलद्वेषी

स्थावरता 1038 1  
अचलद्वेषी  
इद्र 773 5  
अचलन  
अप्रचलन 515 4  
गतिरोध 1047 2  
निश्चलता 1038 2  
अचलनीय मार्ग  
अचलनीय मार्ग 1063 J ⇨  
अचल लक्ष्य  
अचल लक्ष्य 931 3 ⇨  
अचल संपत्ति  
अचल संपत्ति 624 8 ⇨  
भूसंपत्ति 624 11  
अचल होना  
स्थावर होना 1038 4  
अचला  
पृथ्वी 9 1  
अचलाधिप  
हिमालय 17 7  
अचलायमान  
अविचल 500 15  
धैर्यशील 394 15  
अचलायमानता  
अविचलता 500 5  
धैर्य 394 6  
अचलेश्वर  
शिव 767 1  
अचाक्षुष  
असमक्ष 1022 6  
इन्द्रियातीत 306 14  
अचाक्षुषता  
अदृश्यता 282 10  
अचानुर्य  
अप्रवीणता 304 4  
अचान  
अकस्मात् 69 13  
अघानक  
अकस्मात् 69 13  
राह चलते 1098 27  
अघानक आक्रमण  
छापा 914 8  
अघानक आना  
सहसा आना 1093 8  
अघानक रुकना  
गति स्तम्भ होना 1047 17  
अघानघक  
अकस्मात् 69 13  
अघार  
अघार 201 1 ⇨  
धिरोजी 281 15  
अघारज  
आचार्य 323 11  
धर्म शिक्षक 742 21  
अघारदान  
नरतबान 676 11  
अघारदानी  
नरतबान 676 11

अघार  
कालाहीन 403 4  
अघाहा  
अनिच्छित 360 10  
अघित  
निश्चित 378 8  
अघितक  
अविचारक 330 23  
जल्दबाज़ 496 12  
अघितन  
अविचारण 330 8  
जल्दबाजी 496 4  
अघितनीय  
अविचारणीय 330 25  
अघिता  
निश्चितता 378 2  
अघितित  
अविचारित 330 24  
आकस्मिक 69 10  
उपेक्षित 185 7  
निरुद्धिम्न 378 9  
अघितितता  
निरुद्धिगता 378 3  
अघित्य  
अविचारणीय 330 25  
ईश्वर 764 1  
विष्णु 768 1  
अघिकित्थ्य  
अघिकित्थ्य 171 21 ⇨  
अघिति  
चेतनाहीनता 264 2  
अघित्-  
त्रिपदार्थ सूची 765 11  
अघित  
आकस्मिक 69 10  
अघिरंतन  
अशाश्वत 38 6  
अघिरंतनता  
अशाश्वतता 38 1  
अघिर  
अल्प कालीन 38 8  
निकट भूत काल 36 11  
निकट भूत काल में 36 31  
अघिरजीवी  
अल्पायु 229 18  
अघिरता  
अल्प कालीनता 38 3  
अल्पायुता 229 5  
नश्वरता 38 2  
अघिरप्रभा  
मेघ विद्युत् 55 9  
अघिरांगु  
मेघ विद्युत् 55 9  
अघिरेण  
निकट भूत काल में 36 31  
शीघ्रत 496 13  
अघीता [अघीती]  
अविचारित 330 24

असख्य 944 8  
आकस्मिक 69 10  
प्रत्याशातीत 944 9  
अघुतर  
सरल 817 8  
अघुक  
लक्ष्य पर 931 26  
लक्ष्यानुगामी 931 22  
सकल्पपूर्वक 500 16  
अघुक औषध  
अघुक औषध 176 8 ⇨  
अघुक दृष्टि  
तीक्ष्ण दृष्टि 282 2  
अघेत  
असावधान 498 6  
चेतनाहीन 264 20  
अघेत करना  
चेतना हरना 264 15  
अघेतता  
चेतनाहीनता 264 2  
मूर्च्छा 264 5  
अघेतन  
अजीवित 247 8  
असावधान 498 6  
चेतनाहीनता 264 20  
जड़ 78 23  
स्फूर्तिहीन 492 14  
अघेतन जगत  
जड़ जगत 78 3  
अघेतनतः  
चेतनाहीनत 264 24  
अघेतनता  
चेतनाहीनता 264 2  
जड़ता 78 4  
स्फूर्तिहीनता 492 3  
अघेतन पदार्थ  
जड़ पदार्थ 78 5  
अघेतन बल  
जड़तीय बल 1050 5  
अघेतन मन  
अवचेतन मन 352 3  
अघेतन होना  
चेतना खोना 264 14  
अघेतना  
अवचेतन मन 352 3  
चेतनाहीनता 264 2  
अघेतनीकरण  
चेतनाहरण 264 3  
निस्संज्ञीकरण 174 7  
अघेतनीकृत  
चेतनाहृत 264 21  
निस्संज्ञित 174 25  
अघेता  
चेतनाहीन 264 20  
अघेष्ट  
अप्रयत्नशील 490 9  
गतिहीन 1042 12  
निश्चल 1038 8

अघेष्टता  
गतिहीनता 1042 3  
अघेष्टा  
अप्रयत्न 490 1  
अघेतन्य  
चेतनाहीनता 264 2  
जड़ 78 23  
जड़ता 78 4  
अघैना  
कुदा 597 3  
कुटाई ठीहा 596 13  
अघ्छ-  
अघ्छा उपसर्ग सूची 313 19  
अघ्छ  
शिव तीसरा नेत्र 767 8  
सुदर 157 7  
अघ्छा  
कल्याण 710 2  
प्रेमी 368 2  
स्वीकृति उक्ति सूची 337 28  
हॉ 337 29  
हित 712 1  
अघ्छा [अघ्छी]  
अवसरानुकूल 70 14  
उत्तम 313 11  
उन्नत 534 10  
उपयोगी 524 18  
कलापूर्ण 402 3  
कल्याणकारी 710 21  
खरा [खरी] 98 12  
गुणयत्तायुक्त 957 10  
पसद 400 11  
प्रशासनीय 841 30  
प्रिय 369 7  
महान 839 8  
रोचक 400 12  
विशुद्ध 219 7  
सगत 438 6  
सत्कर्मी 814 6  
सद्गुणी 313.15  
सद्व्ययहारी 830 6  
समुद्धिप्रद 626 12  
सुदर 157 7  
सुयिन्धस् 527 23  
स्वच्छ 218 33  
स्यस्थ 161 5  
स्वादिष्ठ 275 20  
स्यास्थ्यप्रद 161 6  
हितकारी 712 13  
अघ्छाई  
उत्तमता 313 1  
महानता 839 1  
विशुद्धता 219 2  
सद्गुण 343 6  
अघ्छाई बुराई  
कल्याण अकल्याण 710.1



<b>अच्छा:</b> उपसर्ग सूची	<b>अच्छा लाभ कमाना</b>	<b>अच्छोत</b>	<b>अछेघ</b>
अच्छा उपसर्ग सूची 313 19 ⇨	अच्छा लाभ कमाना 646 12 ⇨	अत्यधिक 944 7	अखडनीय 326 19
<b>अच्छा करना</b>	<b>अच्छा यज्ञत</b>	अधिक 944 5	अयेध्य 519 26
धिकित्सा करना 171 16	<b>इष्ट योग</b> 261 29	<b>अच्छोद</b>	<b>अछेघता</b>
<b>अच्छा कवि</b>	<b>अच्छा समय</b>	पूर्णांशिक 940 13	अयेध्यता 519 10
अच्छा कवि 448 15 ⇨	सौभाग्य 260 17	<b>अच्छोदा (पूर्वजन्म)</b>	<b>अछोर</b>
<b>अच्छा कहना</b>	<b>अच्छा स्वभाव</b>	सत्ययती 771 95	असीम 1001 34
प्रशंसा करना 841 24	सुस्वभाव 837 1	<b>अच्युत</b>	<b>अछोह</b>
<b>अच्छा काम</b>	<b>अच्छा हाथ मारना</b>	अनश्वर 37 9	निर्दयता 835 2
शक्तकर्म 814 2	अच्छा लाभ कमाना 646 12	अनष्ट 533 16	परजन भावना 125 4
<b>अच्छा खाना</b>	<b>अच्छा होना</b>	अविधल 500 15	<b>अछोही</b>
स्वादिष्ट आहार 197 11	आरोग्य लाभ होना 171 17	ईश्वर 764 1	निर्दय 835 10
<b>अच्छा खासा [अच्छी खासी]</b>	<b>अच्छिन्नपर्ण</b>	कृष्ण 771 1	<b>अजंगम</b>
उत्तम 313 11	सदाबहार वनस्पति 111 5	कौमार्ययुक्त 234 15	स्थायर 1036 7
मध्यम स्तरीय 313 18	<b>अच्छी</b>	विष्णु 768 1	<b>अजंगमता</b>
<b>अच्छा खासी [अच्छी खासी]</b>	उर्वर (भूमि) 552 16	<b>अच्युत मूर्ति</b>	स्थायरता 1038 1
मध्यवित्त 625 8	प्रेमिका 368 3	विष्णु 768 1	<b>अजंघ</b>
<b>अच्छा गुरु</b>	<b>अच्छी कटना</b>	<b>अच्युतांगज</b>	अरुण 111 14
सद्गुरु 323 5	घिता न होना 378 5	कामदेव 773 12	<b>अजंभ</b>
<b>अच्छा चाल चलन</b>	<b>अच्छी खबर</b>	<b>अच्युताग्रज</b>	दूटे दौत वाला 144 18
सच्चरित्रता 810 2	सुसमाचार 440 2	बलराम 771 74	मेढक 124 2
<b>अच्छा चाहना</b>	<b>अच्छी खुराक</b>	वामन अवतार 769 36	<b>अज</b>
कल्याण कामना करना 710 15	पोषक आहार 179 18	<b>अच्युतावास</b>	अजन्मा 24 7
<b>अच्छा जादू</b>	<b>अच्छी गुजरना</b>	पीपल 13 14	दानव सूची 783 13
उपकारक जादू 474 8	घिता न होना 378 5	बरगद 13 16	नर बकरी 121 23
<b>अच्छा न लगना</b>	<b>अच्छी जान पहचान</b>	<b>अछंदबद्ध</b>	नर मेड़ 127 25
अप्रिय होना 370 3	चिर पचितता 704 9	छदहीन 452 54	रुद्र सूची 767 36
<b>अच्छा पका</b>	<b>अच्छी तरह</b>	<b>अछक</b>	<b>अजकव</b>
सुपरिपाचित 195 67	विचारितत 330 29	अतृप्तत 362 7	शिव धनुष 926 12
<b>अच्छा बरतना</b>	विधिपूर्वक 514 19	<b>अछदम</b>	<b>अजकाव</b>
सद्व्यवहार करना 830 4	सुरक्षितत 908 29	प्रकटता 822 8	बबूल 13 15
<b>अच्छा बरताव</b>	<b>अच्छी तरह सोचना</b>	<b>अछद्म</b>	शिव धनुष 926 12
सद्व्यवहार 830 1	विमर्श करना 330 16	छद्महीन 822 30	<b>अजगर</b>
<b>अच्छा बिच्छा [अच्छी बिच्छी]</b>	<b>अच्छी नस्ल का</b>	<b>अछन</b>	अजगर 123 17 ⇨
स्वस्थ 161 5	अच्छी नस्ल का 243 18 ⇨	मदत 1045 15	सर्प सूची 123 16
<b>अच्छा बुरा</b>	<b>अच्छी पटना</b>	<b>अछवाई</b>	<b>अजगरी वृत्ति</b>
उन्नति अवनति 532 3	घनिष्ठ होना 704 16	स्वच्छीकरण 218 2	अपयत्न 490 1
कल्याण अकल्याण 710 1	<b>अच्छी बात</b>	<b>अछयाना</b>	<b>अजगाव</b>
भाग्य 260 14	सुघचन 431 1	स्वच्छ करना 218 24	राशिचक्र 4 4
विपरीतता उपमान सूची 310 13	<b>अच्छी लिखाई</b>	<b>अछिद्र</b>	शिव धनुष 926 12
<b>अच्छा बुरा [अच्छी बुरी]</b>	सुलेख 412 10	अपराधहीन 861 16	<b>अजगुत</b>
उत्तम अनुत्तम 313 10	<b>अच्छी लड़क</b>	छिद्रहीन 272 9	विलक्षण 312 16
<b>अच्छा बुरा कहना</b>	चलनीय मार्ग 1063 2	<b>अछिपाव</b>	<b>अजगीब</b>
निंदा करना 843 14	<b>अच्छी साइत</b>	छद्महीनता 822 11	अंदरय स्थान 33 2
<b>अच्छा बुरा: ज्ञान</b>	इष्ट योग 261 29	<b>अछूत</b>	<b>अजगीबी</b>
विवेक 301 7	<b>अच्छी सीख</b>	अस्पृश्य 731 34	परलौकिक 258 14
<b>अच्छा भला [अच्छी भली]</b>	अच्छी सीख 332 7 ⇨	<b>अछूत (प्राचीन)</b>	<b>अजज्रा</b>
उत्तम 313 11	<b>अच्छी स्मरण शक्ति</b>	शूद्र 731 28	पद्यभूत 78 8
<b>अच्छा भाग्य</b>	स्मृतिधरता 356 3	<b>अछूतता</b>	<b>अजटिलता</b>
सौभाग्य 260 17	<b>अच्छे</b>	अस्पृश्यता 731 11	सुलभापन 574 6
<b>अच्छा मित्र</b>	शाबाशी उद्गार सूची 841 40	<b>अछूता [अछूती]</b>	<b>अजकता</b>
निस्वार्थ मित्र 705 10	<b>अच्छे काम करना</b>	अभुक्त 364 9	जगमता 1037 2
<b>अच्छा लगना</b>	पुण्य करना 814 3	अस्पृशित 269 16	<b>अजदहा</b>
पसंद आना 400 10	<b>अच्छे समय का मित्र</b>	<b>अछूतापन</b>	अजगर 123 17
प्रिय होना 369 6	सस्वार्थ मित्र 705 8	अभुक्तता 364 2	<b>अजनक</b>
शोभायित होना 226 7	<b>अच्छे समय की मित्रता</b>	<b>अछेद</b>	रचनाहीन 528 5
सुखद लगना 390 9	सस्वार्थ मित्रता 705 7	छलहीनता 815 3	<b>अजनन</b>
			अजनन 240 6 ⇨

## अजनन कोशिका

**अजनन कोशिका**  
अजनन कोशिका 130 6 ⇨  
**अजननन्य**  
वध्याता 238 3  
**अजनन संबंध**  
दत्तकता 716 4  
**अजननिका (प्र)**  
अजनन कोशिका 130 6  
**अजननी**  
वध्या 238 16  
**अजनबी**  
अपरिचित 697 16  
**अजनबीपन**  
अपरिचितता 697 5  
परजन भावना 725 4  
**अजन योजिज**  
दक्ष 787 2  
**अजनाकीर्ण**  
अजनाकीर्ण 617 15 ⇨  
**अजनाकीर्णता**  
अजनाकीर्णता 617 5 ⇨  
**अजन्य**  
अजन्य 247 2 ⇨  
अनस्तित्व 247 1  
**अजन्यगत**  
अस्याभाविक 836 12  
**अजन्यगतता**  
अस्याभाविकता 836 6  
**अजन्यजात**  
अनानुवशिक 727 40  
अस्याभाविक 836 12  
**अजन्यजातता**  
अस्याभाविकता 836 6  
**अजन्मा**  
अजन्मा 247 7 ⇨  
ईश्वर 764 1  
कामदेव 773 12  
ब्रह्मा 766 1  
विष्णु 768 1  
**अजन्य**  
असगत 439 5  
**अजपति**  
मगल ग्रह 77  
**अजपा**  
अजपा जप 749 5  
**अजपा जप**  
अजपा जप 749 5 ⇨  
**अजपाल**  
भेड़ बकरी पालक 555 2  
**अजः पिता**  
रघु 770.46  
**अजबंधु**  
मूर्ख व्यक्ति 302 2  
**अजब**  
विलक्षण 312 16  
विलक्षणता 312 3  
**अजबीयत**  
विलक्षणता 312 3

**अजमत**  
महानता 839 1  
वैभव 226 5  
**अजमुख**  
दक्ष 787 2  
**अजमोदा**  
अजवायन 281 7  
**अजमोदिका**  
अजवायन 281 7  
**अजय**  
अजेय 519 27  
विष्णु 768 1  
**अजया**  
बकरी 127 22  
भोग 210 1  
माया 762 9  
**अजर**  
अजरजर 533 15  
अनश्वर 37 9  
धिरयुवा 231 13  
देयता 772 1  
**अजर अमर**  
ईश्वर 764 1  
**अजरता**  
अनश्वरता 37 3  
**अजरा**  
धिर यौवन 231 10  
**अजरजर**  
अजरजर 533 15 ⇨  
**अजर्य**  
धिर यौवन 231 10  
**अजल**  
सृष्टि काल 529 2  
सृष्टि काल 529 2  
**अजवायन**  
अजवायन 281.7 ⇨  
**अजवीधी**  
आकाश गंगा 1 14  
राशिचक्र 4 4  
**अजघ्न**  
अधिराम 1049 10  
असंख्य 944 8  
असमाप्य 943 12  
तारतम्यपूर्ण 1049 12  
**अजहद**  
असंख्य 944 8  
**अजहल्लिग**  
अजहल्लिग 425.47 ⇨  
**अजहुँ**  
अब तक 39 14  
वर्तमान मे 38.33  
**अजा**  
बकरी 127 22  
भेड़ 127 24  
माया 762 9  
मृत्यु संवेदना 253 17  
योग माया 771.82

**अजा**  
शारीरिक पीडा 392 4  
**अजागरुक**  
असावधान 498 6  
चेतनाहीन 264 20  
**अजाग्रत**  
चेतनाहीन 264 20  
**अजा धर्म**  
अजा धर्म 582 6 ⇨  
**अजाजील**  
शैतान 785 1  
**अजाजीव**  
भेड़ बकरी पालक 555 2  
**अजात**  
अजन्मा 247 7  
**अजातशत्रु**  
शत्रुहीन 706 17  
**अजातरमभू**  
दादी मूँछ हीन 136 9  
**अजातारि**  
युधिष्ठिर 771 80  
शत्रुहीन 706 17  
शिव 767 1  
**अजाति**  
जाति निर्वासित 870 28  
जातिहीन 730 18  
**अजातिगत**  
अस्याभाविक 836 12  
**अजातिगतता**  
अस्याभाविकता 836.6  
**अजादार**  
मृत्यु शोकग्रस्त 253 39  
**अजान**  
अजान 751 9 ⇨  
**अजान**  
अज्ञ 305 16  
**अजान**  
इसलामी पूजा गीत सूची 749.27  
**अजान**  
विचारहीनता 330.30  
**अजाना [अजानी]**  
अपरिचित 697 16  
**अजानि**  
विधुर 804 19  
**अजानी**  
मुअज़्ज़िन 744 20  
**अजाने**  
विचारहीनता: 330 30  
**अजा पालन**  
भेड़ बकरी पालन 555.1  
**अजाप्रिया**  
बेर 190.28  
**अजाब**  
दंड 870.1  
पाप कष्ट 260.12  
शारीरिक पीडा 392.4  
संकट 909.1

**अजाबः फ़रिश्ते**  
नकीरेन 256 10  
**अजा बलि**  
अजामेध 754 11  
**अजाबुलक़न्न**  
कन्न मे मिलने वाला पाप कष्ट 260 13  
**अजाभक्ष**  
बबूल 13 15  
**अजा मांस**  
छाग मांस 206 22  
**अजामुख**  
दानव सूची 783 13  
**अजामेध**  
अजामेध 754.11 ⇨  
**अजायब घर**  
अजायब घर 669 16 ⇨  
**अजार**  
रोग 163 1  
**अजारज**  
वैध 716 19  
**अजारजता**  
सतान वैधता 716 3  
**अजिज्ञासु**  
जिज्ञासाहीन 306 19  
**अजित**  
अजेय 519 27  
अपराजित 913 6  
गीतम बुद्ध 793 1  
विष्णु 768 1  
शिव 767 1  
**अजितता**  
अपराजितता 913.2  
**अजित नाथ**  
तीर्थकर सूची 792.2  
**अजित होना**  
पराजित न होना 913 4  
**अजितेंद्रिय**  
अजितेंद्रिय 363 18 ⇨  
अविरक्त 365 7  
**अजिन**  
आसन धर्म 582 12  
धमड़ा. धैला 673.2  
धर्म 582 1  
धर्म आसन 595.4  
छाल 116 5  
त्वचा 134.1  
धीकनी 85.25  
मृगछाला आदि सूची 595.5  
**अजिनपत्री**  
धमगादंड 127.67  
**अजिनयोनि**  
हिरन 127.42  
**अजिबा ससुर**  
दादसरा 724.8  
**अजिया स्रास**  
दादस 724.9  
**अजिर**  
एकड़ 959.35

दुतगामी [दुतगामिनी] 1044.7	अजीर्ण (बोलचाल)	अज्ञात आकाश यान	अज्ञानदश
शरीर 139.1	जर्ज 536.11	उड़न तरतरी 1074.4	विचारहीनतः 330.30
प्रजित्द पुस्तक	अजीर्णहर	अज्ञातकुल	अज्ञानी
पेपरबैक पुस्तक 446.6	पुदीना 281.23	अज्ञातवश 727.38	अज्ञ 306.16
प्रजिह्म	अजीर्णित	अज्ञातः खोज	अनुभवहीन 304.8
सरल 817.8	अजर्ज 533 15	खोज यात्रा 336.7	अवयस्क 229.22
प्रजिह्मग	अजीवंत	अज्ञातगोत्र	अविवेकी 302.11
बाण 926 16	स्फूर्तिहीन 492.14	अज्ञातवंश 727 38	अशिक्षित 321.42
अजीज़	अजीवंतता	अज्ञातधारी	मूर्ख 302 7
पुरुष मित्र 705.2	स्फूर्तिहीनता 492 3	भूमिगत 824 23	लाल बुझक्क 302.3
प्रेमपात्र 369 4	अजीय	अज्ञातता	व्यवहार अकुशल 829.9
अजीज़	अजीवित 247 8	अख्याति 848.2	सहज विश्वासी 340.16
रिश्तेदार 715.6	जड़ 78.23	गुप्ता 824.2	अज्ञेय
अजीज़	जड़ जगत 78.3	अज्ञातनाम	अज्ञेय 306.13 ⇨
स्नेहपात्र 368 11	अजीव जगत	अख्यात 848 5	अस्पष्ट 823.11
स्वजन 725.1	जड़ जगत 78.3	नामहीन 315 14	ईश्वर 764.1
अजीज़ [अजीज़ा]	अजीय रसायन	अज्ञातनामा	गुप्त 824.20
प्रिय 369 7	अकार्बनिक रसायन 87.2	नामहीन 315.14	शिव 767.1
अजीज़ जानना	अजीवित	अज्ञात परिणामः खोज	अज्ञेयतः
प्रेम करना 368.13	अजीवित 247.8 ⇨	नव प्रयोग 307.6	अस्पष्टतः 823.15
स्नेह करना 368.16	अजूबा	अज्ञातपूर्व	अज्ञेयता
अजीज़दार	विलक्षण वस्तु 312.6	अभूतपूर्व 312.18	अज्ञेयता 306.5 ⇨
रिश्तेदार 715.6	अजूबा	अज्ञातपूर्वता	अस्पष्टता 823.1
अजीज़दारी	पारिश्रमिक 643.8	अभूतपूर्वता 312 5	अज्ञेयवाद
रिश्तेदारी 715 5	अजेतव्य	अज्ञात मात्रा	अज्ञेयवाद 760.6 ⇨
अजीज़ मानना	अजेय 519.27	अज्ञात मात्रा 946.6 ⇨	अज्ञोरी
प्रेम करना 368.13	अजेय	अज्ञात में	बागली धैला 673.5
अजीज़ी	अजेय 519.27 ⇨	विचारहीनतः 330.30	अटंबर
प्रियता 369 1	अदम्य 519.28	अज्ञात यान	ढेर 686.6
मित्रता 705.1	अजेयता	उड़न तरतरी 1074.4	अटक
अजीटन	अजेयता 519.11 ⇨	अज्ञात राशि	अटकापन 1024.7
ऐडजुटेड 935.6	अजेकपाद	अज्ञात राशि 952 8 ⇨	अयरोध 1047.8
अजीत	विष्णु 768.1	अनिरिचित संख्या 949.4	त्वाट्टर पिन 417.7
अजेय 519.27	अजेय	अज्ञात राशिः प्रतीक	गस्त लगाने वाला 1083.26
अपराजित 913 6	जड़ 78 23	अज्ञात राशिः प्रतीक 952.9 ⇨	निषेध 880 1
अम्लान 119.14	अजेव पदार्थ	अज्ञातवंश	विलंब 495 1
अजीब	जड़ पदार्थ 78 5	अज्ञातवंश 727.38 ⇨	अटकन
कुडोल 155 5	अजोगी [अजोगी]	अज्ञातवास	पस्त भूति 1013.3
विलक्षण 312.16	असंगत 439.5	भूमिगतता 824.6	अटकन बटकन
अजीबो गरीब	अज्ज	अज्ञातवासी	अटकन बटकन 476.1 ⇨
विलक्षण 312.16	वर्तमान में 36.33	भूमिगत 824.23	अटकना
अजीम	अज्ञ	अज्ञान	अटकना 1024.9 ⇨
महान 839.8	अज्ञ 306.16 ⇨	अज्ञान 306.1 ⇨	अवरुद्ध होना 1047.18
अजीमुरशान	व्यवहार अकुशल 829.9	अनभिज्ञता 306.6	गति रुद्ध होना 1047.16
वैभवशाली 226 15	अज्ञता	अपरिज्ञान 306.8	प्रेम होना 368.12
अजीरन	अनभिज्ञता 306.6	आसक्ति 365.1	यंत्र विकृत होना 536.5
अजीर्ण 163.26	मूर्खता 302 1	माया 762 9	विलंब होना 495.6
कुपथ्याहार 182 8	व्यवहार अकुशलता 829.2	मूर्खता 302.1	हिचकना 501.6
जीर्ण रोग 163.3	अज्ञात	विषय वासना रूपी अज्ञान 761.2	अटकल
अजीरन (बोलचाल)	अख्यात 848 5	व्यवहार अकुशलता 829.2	अटकल 947.3 ⇨
जर्ज 536 11	अज्ञात 306.12 ⇨	अज्ञान अंधकार	अटकल के सहारे
अजीरन होना	अपरिचित 697.16	अज्ञान अंधकार 306.2 ⇨	अटकल के सहारे 947.29 ⇨
कठिन होना 519 15	अप्रत्याशित 376 /	अज्ञानतः	अटकलसना
अजीर्ण	अमापित 958.59	विचारहीनतः 330.30	अटकल लगाना 947.16
अजर्ज 533.15	गुप्त 824.20	अज्ञान तिमिर	अटकल पञ्चू
अजीर्ण 163.26 ⇨	जिज्ञासाजनक 305.43	अज्ञान अंधकार 306.2	अटकल के सहारे 947.29
कुपथ्याहार 182 8	रक्षित (रहस्य) 823.14	अज्ञानपूर्ण	अटकलबाज़
	संदिग्ध 341.9	अज्ञानपूर्ण 306.11 ⇨	अटकलबाज़ 947.20 ⇨

## अटकलबाज़ी

<b>अटकलबाज़ी</b>	नियतता 68.8	<b>अदूतता</b>	गगनचुंबी भवन 602.25
अटकलबाज़ी 947 4 ⇐	<b>अटल नियम</b>	क्रमिकता 991.2	बहुखंडी भवन 602.21
<b>अटकलबाज़ी करना</b>	अनपवाद 879.13	तारतम्य 1049 3	महल 602.32
अटकल लगाना 947 16	<b>अटलनीय</b>	<b>अदूट दोंपत्य</b>	<b>अदृतालिका कार</b>
<b>अटकल लगाना</b>	अयश्रयभायी 68 15	दोंपत्य संग 803 1	भवन निर्माता 598.2
अटकल लगाना 947 16 ⇐	<b>अटलनीयता</b>	<b>अदूट संबंध</b>	<b>अदृटी</b>
<b>अटका [अटकी]</b>	नियतता 68 8	अदूट संबंध 715.3 ⇐	अंदी 575 3
अटका [अटकी] 1024 11 ⇐	प्रारम्भाधीनता 260 2	वियाह 799.1	<b>अट्टा</b>
अवरुद्ध 1047 27	<b>अटवाटी खटवाटी</b>	<b>अटेरन</b>	आठ. समुदाय 687 10
उलझा [उलझी] 573 20	खाट खटोला 594.7	अटेरन 562 13 ⇐	<b>अट्टारह</b>
विलंबित 495 11	<b>अटवारी</b>	अति क्षीणकाय 159 14	अटारह 948 52
<b>अटका (जगन्नाथ)</b>	बोरिया बिस्तर 593 61	अश्व प्रशिक्षण 555.10	<b>अट्टी</b>
नैवेद्य 750 7	<b>अटथि</b>	परिक्रमा 1033 3	आठ समुदाय 687 10
<b>अटकाना</b>	यन 12 1	<b>अटेरन काबा</b>	<b>अटथा</b>
अवरुद्ध करना 1047 19	<b>अटथिक</b>	अश्व प्रशिक्षण 555 10	पर्यटन 1090 6
टोंकना 577 26	यन्य 12 36	<b>अटेरन होना</b>	पर्यटन प्रियता 1090.1
<b>अटकापन</b>	<b>अटहर</b>	क्षीणकाय होना 159 7	<b>अठ</b>
अटकापन 1024 7 ⇐	अवरोध 1047 8	<b>अटेरना</b>	आठ 948 31
गति रुद्धता 1047 3	ढेर 686 6	लपेटना 575 11	आठ समुदाय 687.10
<b>अटकाव</b>	पगड़ी 584 13	<b>अटेरा</b>	<b>अठई</b>
अटकापन 1024 7	पगड़ी लपेट 584 25	परिक्रमा 1033 3	अष्टमी 44.14
अवरोध 1047 8	<b>अटा</b>	<b>अटेशन (अँ)</b>	<b>अठकका [अठककी]</b>
<b>अटन</b>	गश्त 1083.16	सलामी मुद्रा 1060 18	आठ खडीय. 938.58
गश्त 1083 16	ढेर 686 6	<b>अटैष करना</b>	<b>अठकोसल</b>
मिक्षाटन 642 3	दर्शक अलित्द 471.5	कुर्त्ती करना 635 11	पद्यायत 892 1
<b>अटन कर्ता</b>	पर्यटन प्रियता 1090 1	<b>अटैषी (अँ)</b>	परामर्श 332 1
गश्त लगाने वाला 1083 26	<b>अटादूट</b>	ब्रीफकेस 673 8	<b>अठखंडा [अठखंडी]</b>
<b>अटन पर जाना</b>	असख्य 944 8	सूटकेस 676 19	आठ खडीय 938 58
गश्त लगाना 1083 23	<b>अटाटचा</b>	<b>अटैशी केस (अँ)</b>	<b>अठखेलपन</b>
<b>अटन पर निकलना</b>	पर्यटन प्रियता 1090 1	ब्रीफकेस 673 8	क्रीड़ाप्रियता 469 5
गश्त लगाना 1083 23	<b>अटाना</b>	सूटकेस 676.19	<b>अठखेलियाँ करना</b>
<b>अटना</b>	भरा जाना 1004.7	<b>अटैस्टिड (अँ)</b>	क्रीड़ा करना 469 10
गश्त लगाना 1083 23	समाविष्ट होना 1002.12	अनुप्रमाणित 327.14	<b>अठखेलिया</b>
पर्याप्त होना 941.5	सही आकार होना 961.15	<b>अदृट</b>	क्रीड़ाप्रिय 469.16
सही आकार होना 961.15	<b>अटारी</b>	अत्यधिकता 944.2	<b>अठखेली</b>
<b>अटनी</b>	अटारी 611 10 ⇐	असख्य 944.8	इतराहट 860 5
धनुष छोर 926 14	छत. कक्ष 614 23	आक्रमण 914 3	क्रीड़ा 469 4
<b>अटपटा [अटपटी]</b>	दर्शक अलित्द 471 5	टॉक 612.4	<b>अठखेलीपूर्ण</b>
असगत 439 5	दृश्यकक्ष 614.25	भवन शिखर 611.1	क्रीड़ापूर्ण 469 15
कठिन 519 18	बहुखंडी भवन 602 21	रेशमी वस्त्र 579 10	<b>अठताल</b>
कूट 823 12	<b>अटाला</b>	<b>अदृटसदृट</b>	अठताल 458.46 ⇐
विलक्षण 312 16	असबाब 1087 31	बकवासपूर्ण 428 25	<b>अठनी</b>
<b>अटपंडम</b>	ढेर 686 6	रही 528 13	अठनी 629.5 ⇐
अक्रमत (घयित) 1009 23	बहुखंडी भवन 602.21	<b>अदृटहास</b>	<b>अठपहला</b>
<b>अटपम शटरम</b>	महल 602 32	अदृटहास 384.2 ⇐	अष्टफलक 977.23
विधि सामग्री 669 4	स्टोक 666 9	<b>अदृटहास करना</b>	<b>अठपहला [अठपहली]</b>
<b>अटरिया</b>	<b>अटिकाऊ</b>	अदृटहास करना 384.8 ⇐	अष्टपाश्चीय 997.18
अटारी 611 10	अल्प कालीन 38.8	<b>अदृटहासी</b>	<b>अठपहली</b>
<b>अटल</b>	<b>अटिकाऊपन</b>	अदृटहासी 384.16 ⇐	अष्टफलक 977.23
अनश्वर 37.9	अल्प कालीनता 38.3	शिय 767.1	<b>अठपहलू</b>
अवश्यंभायी 68 15	<b>अदृट</b>	<b>अदृटा</b>	अष्टपाश्चीय 997.18
अधिघल 500 15	अनश्वर 37 9	आखेट मंच 252.23	अष्टफलक 977.23
दृढमतपूर्ण 343 13	अभजनशील 539 9	<b>अदृटाल</b>	<b>अठभुज</b>
नियत 68.16	अभजित 539 13	अटारी 611.10	अष्टभुज 969.11
प्रारम्भाधीन 260 27	अथिराम 1049 10	पहरा मीनार 908.7	<b>अठभुजा</b>
<b>अटलता</b>	असंख्य 944 8	महल 602.32	अष्टभुज 969.11
अधिघलता 500 5	क्रमिक 991 21	<b>अदृटालिका</b>	<b>अठमात्ता [अठमात्ती]</b>
दृढमतता 343 2	तारतम्यपूर्ण 1049.12	ऐश्वर्य भवन 602.12	अकाल प्रसूत 244.15

**अठवाका**  
आठ: समुदाय 687.10  
**अठवाका (बोलचाल)**  
सप्ताह 46.1  
**अठवाके का**  
साप्ताहिक 46 17  
**अठान**  
अकरणीय 505 19  
असाध्य 519.22  
शत्रुता 706.1  
**अठाना**  
कार्य आरंभ करना 521 5  
दृढ़ आधारित करना 1019 12  
**अठारह**  
अठारह 948.52 ⇨  
**अठारह: उपमान सूची**  
अठारह: उपमान सूची 948 53 ⇨  
**अठोतर सी**  
एक सी आठ 948 71  
**अठोतरी**  
108 मनके माला 228 53  
**अठोस**  
असघन 80 10  
**अठंगा**  
अवरोध 1047 8  
वेग अवरोधक 1043 4  
**अठंगा लगाना**  
अवरुद्ध करना 1047 19  
**अठंगेबाज़**  
अवरोधक 1047 28  
**अठंगेबाज़ी**  
अवरोधकता 1047.10  
**अठंत**  
गति प्रतिरोध 1047.5  
**अठ**  
आन 349.3  
ख़स 353.11  
दुराग्रह 349.2  
नाका 1064.9  
बारेज 22.3  
विलंब 495.1  
शत्रुता 706.1  
हठ 349.4  
**अठका**  
टेक रोड़ा 596 6  
**अठगोका**  
गला: खूँटा 555.12  
**अठघन**  
विघ्न 1047.12  
**अठठंका**  
अठठंका 968.23 ⇨  
मस्तूल: अठठंका 1073.14  
**अठठपोषी**  
धर्म पाखंडी 825.4  
,हस्तरेखादि 261.46  
**अठताल**  
शरण 910.4

**अठवब**  
परकोटा: अठवब 604.16  
**अठवार**  
आन वाला 349.13  
**अठना**  
अटकना 1024.9  
अवरुद्ध होना 1047.18  
आन करना 349 8  
दुराग्रह करना 349 7  
धैर्य धारना 394.11  
प्रतिद्विदिता करना 707 5  
प्रतिरोध करना 915 4  
हठ करना 349 9  
**अठबंग**  
आगम्य 519 25  
**अठबंगा [अठबंगी]**  
कठिन 519 18  
विलक्षण 312 16  
**अठल (मलयालम)**  
प्रवाल द्वीप वलय 97 6  
**अठवाल**  
अड़वाल 1073.22 ⇨  
**अठहुल**  
जवा कुसुम 14.17  
**अठा [अठी]**  
विलंबित 495 11  
**अठाअठी**  
प्रतिद्विदिता 707.1  
शत्रुता 706.1  
**अठाना**  
अवरुद्ध करना 104' 19  
दूसना 1004.10  
डाट 675 11  
**अठापन**  
गति रुद्धता 1047.3  
**अठार**  
ईधन: दुकान 110.15  
खंडा परकोटा 604 12  
ढेर 686.6  
**अठिन**  
अधिचल 500.15  
दृढ़मतपूर्ण 343.13  
**अठिंगता**  
अधिचलता 500.5  
दृढ़मतता 343.2  
**अठिचल**  
कामघोर 490.10  
दुराग्रही 349.12  
पूर्व धारणाग्रस्त 343.15  
मतांध 343.18  
व्यवहार अकुशल 829.9  
हठी 349.14  
**अठिचलपन**  
मतांधता 343.11  
व्यवहार अकुशलता 829.2  
हठीलापन 349.5  
**अठिचल बैल**  
कामघोर बैल 127.14

**अठी**  
अभावग्रस्तता 627.2  
संकट काल 909 7  
**अठुआरी**  
मछली 125.1  
**अठोस**  
पड़ोस 31 3  
**अठोस पड़ोस**  
पड़ोस 31 3  
**अठोसी पड़ोसी**  
पड़ोसी 31.4  
**अठडा**  
अटेरन 562 13  
अड्डा 696.10 ⇨  
कड़ाई फ्रेम 562 21  
करघा 562 15  
केंद्रीय स्थान 971.5  
गृह 601.1  
चौखटा 604.9  
घूतगृह 481 13  
पक्षी छतरी 603 13  
परिवहन स्थल 1069.1  
मद्य विक्रय स्थल 209.34  
**अठडेबाज़**  
अठडेबाज़ 696.25 ⇨  
**अठडेबाज़ी**  
अठडेबाज़ी 696.9 ⇨  
अठडे दिन का झोंपका  
अल्प कालीनता: उक्ति सूची 38.9  
**अठैया**  
ढाई 949.34  
**अठि**  
अक्षाय कील 1077 14  
सीमा 1001.1  
सुई नोक 502.25  
**अठिमा**  
सिद्धि देवी सूची 774 101  
सूक्ष्मता 980.2  
**अठिीय**  
महीन वस्त्र 579.7  
**अठु**  
कण 938.2  
खंड 938.1  
**अठु-**  
परमाणविक 78 26  
**अठु**  
परमाणु 78 10  
पुट 1008.6  
मोलक्यूल 78.21  
शिव 767 1  
सूक्ष्म अंश 939.6  
**अठु अस्त्र**  
परमाणु अस्त्र 927.15  
**अठुक**  
रैडिकल 78.22  
सूक्ष्म 980.21  
**अठुत**  
ताल मात्रा: प्रकार सूची 458.35

**अठु बम**  
आणविक बम 927 16  
**अठुभा**  
विद्युत 102.1  
**अठुमात्र**  
सूक्ष्मतम 980.22  
**अठुमात्रिक**  
सूक्ष्मतम 980.22  
**अठुयुग**  
आधुनिक काल 76.9  
**अठु रेणु**  
त्रसरेणु 100.7  
**अठुल (म्र)**  
रैडिकल 78.22  
**अठुवीक्षण यंत्र**  
सुदंबीन 283 5  
**अठुव्रत**  
कर्तव्य पालन 895 5  
**अठुवीहि**  
घायल 187 9  
घान 187.11  
**अतंत्र**  
शासनहीन 894.7  
**अतंत्र**  
चेतनायुक्त 263.12  
जाग्रत 265 7  
सावधान 497 4  
**अतंद्रा**  
जाग्रत अवस्था 265.1  
निद्राहीनता 265.4  
सावधानी 497.1  
**अतः**  
इस लिए 507.10  
परिस्थिति में 69.14  
**अतःपरम्**  
इस के लपरांत 39.19  
**अतएव**  
इस लिए 507.10  
**अतकनीकता**  
अतकनीकता 515.3 ⇨  
**अतकनीकी**  
अतकनीकी 515.9 ⇨  
**अतकनीकी बोली**  
प्रचलित बोली 421.3  
**अतट**  
तीव्र चक्रानयुक्त 988.12  
पर्वत शिखर 16.11  
**अतटस्थ**  
पक्षधर 885.33  
**अतटस्थता**  
पक्षधरता 885 1  
**अतत्पर**  
अनुद्यत 492.18  
  
अनुद्यतता 492.6  
**अतत्परतापूर्वक**  
अनुद्यततः 492.20

## अतप

अतप  
 पाखंडहीन 822.31  
 शीतल 105 19  
 अतप्य  
 अनुष्ण 104.19  
 अतमिष्य  
 आलोकित 285 45  
 अतर  
 इत्र 274 8  
 अतरसौं  
 परसौं 46 15  
 अतरपीटा  
 इत्रदान 274 9  
 अतर्कित  
 अविचारित 330 24  
 अतर्क्य  
 तर्कातीत 306 15  
 अतर्पण  
 अतृप्ति 362 2  
 अतल  
 अगाध्य 984 10  
 सात पाताल सूची 258 8  
 अतलांतिक  
 अतलांतिक महासागर 24.13  
 अतलांतिक महासागर  
 अतलांतिक महासागर 24.13 ⇨  
 अतल्लीन  
 ध्यानहीन 331 13  
 अतल्लीनता  
 ध्यानहीनता 331.3  
 अतसी  
 लिनन 580 39  
 सन 588 2  
 अता  
 दान 641.1  
 प्रदान 838 1  
 अताई  
 ईश्वर प्रदत्त 764 37  
 स्वशिक्षित 321.48  
 अताई हकीम  
 अनाड़ी धिकित्सक 171 14  
 अता करना  
 दान देना 641.19  
 अताप  
 अनुष्ण 104 19  
 अतापता  
 पता निर्देश 444 14  
 पहेली संकेत 333.16  
 विषय सूची 447.7  
 संदर्भ 437.3  
 अतापी  
 अनुष्ण 104 19  
 अता करमाना  
 कृपापूर्वक देना 638 8  
 अताबक़्का  
 दानवीर 641 28  
 अतारो  
 अतारो 443.11 ⇨

अतारो (क्रां)  
 अतारो 443.11  
 अति  
 अत्यधिक 944.7  
 अत्यधिकता 944.2  
 अधिक 944.5  
 अति अनुभवी  
 अति अनुभवी 303.18 ⇨  
 अति अनुभवी (वे.)  
 प्रौढधी 301 25  
 अति अभावग्रस्त  
 कंगाल 627.21  
 अति अभावग्रस्ता  
 कंगाली 627.7  
 अति अलंकृत  
 अत्यलंकृत 227.8  
 अति आनंद  
 अति आनंद 382.4 ⇨  
 अति आनंदित  
 अति आनंदित 382.20 ⇨  
 अति आनंदित होना  
 अति आनंदित होना 382.12 ⇨  
 अति आर्द्र  
 अति आर्द्र 88.28 ⇨  
 अति आवश्यक  
 अत्यावश्यक 524.23  
 अति आविष्ट  
 अति आविष्ट 371.9 ⇨  
 अति आविष्ट होना  
 अति आविष्ट होना 371.6 ⇨  
 अति आवेश  
 अति आवेश 371.2 ⇨  
 अति उष्ण  
 अति उष्ण 104.20 ⇨  
 अति उष्ण जलवायु  
 अति उष्ण जलवायु 51.5 ⇨  
 अति कटु  
 बहुत कड़वा 276.8  
 अतिकर्ष  
 अति परिश्रम 493.3  
 अतिकर्षी  
 अति परिश्रमी 493.10  
 अतिक्राय  
 महाक्राय 154.22  
 अतिक्रायता  
 महाक्रायता 154 7  
 अतिकालीन  
 समयोपरांत 62.16  
 अति कुटिल  
 अति कुटिल 818.8 ⇨  
 अति कृपण  
 अति कृपण 639.27 ⇨  
 अतिक्रम  
 अतिक्रम 861.8  
 आक्रमण 914 3  
 नियम भजन 879 8  
 अतिक्रमण  
 घुसन 1094 13

प्रबल आक्रमण 914 7  
 मर्यादा उल्लंघन 809 2  
 सीमातिक्रमण 1001 27  
 अतिक्रमण करना  
 सीमातिक्रमण करना 1001.32  
 अतिक्रमित  
 अतिक्रमित 1001 41 ⇨  
 आक्रांत 914.18  
 अतिक्रमी  
 घुसपैठिया 1094.16  
 अतिक्रांत  
 अतिक्रमित 1001.41  
 अतिक्रामक  
 अतिक्रामक 1001.42 ⇨  
 आक्रांता 914.20  
 मर्यादा उल्लंघक 809.8  
 अति क्रुद्ध  
 अति क्रुद्ध 373.30 ⇨  
 अति क्रुद्ध होना  
 अति क्रुद्ध होना 373.16 ⇨  
 अति क्रोध  
 अति क्रोध 373.2 ⇨  
 अति क्लान्त  
 बहुत थका 492.16  
 अति क्षीणकाय  
 अति क्षीणकाय 159.14 ⇨  
 अतिक्लेष  
 अतिक्लेषण 1052 3  
 अतिक्लेषण  
 अतिक्लेषण 1052.3 ⇨  
 अतिगत  
 अत्यधिक 944.7  
 अतिगमन  
 अधिलंघन 1095.4  
 अतिगव  
 अवर्णनीय 449.26  
 यज्ञधी 302.9  
 अति गहन  
 अगम्य 519.25  
 अतिगामी  
 अधिलंघक 1095.20  
 अति गुणी  
 बहुगुणी 313.16  
 अति गूढ  
 दुर्बाध्य 519 23  
 रहस्यपूर्ण 823 13  
 अतिग्रही  
 असंयमी 809.9  
 अतिग्राह  
 इन्द्रियार्थ 268.9  
 अतिबंधा  
 नायिका सूची 774.46  
 अतिघार  
 अतिघार 861.8 ⇨  
 सीमातिक्रमण 1001.27  
 अतिघारी  
 अधिलंघक 1095.20

अतिचित्र (प्र)  
 कार्टून 450.24  
 कैरिकेचर 404.13  
 अतितरण  
 पार तरण 1097.3  
 अतितारी  
 पार तरित 1097 16  
 अति तिक्त  
 बहुत चरपरा [बहुत चरपरी] 278 13  
 अतितिक्षा  
 असाहिष्णुता 873 4  
 अतितिक्षु  
 असाहिष्णु 873.13  
 अतिथि  
 अतिथि 183.16 ⇨  
 शिव 767 1  
 अतिथि (वे.)  
 शुभांगतुक 1093.14  
 अतिथि कक्ष  
 गैस्टरूम 1090.30  
 अतिथि क्रिया  
 सत्कार 184.1  
 अतिथि गृह  
 गैस्टरूम 1090.30  
 गैस्ट हाउस 1090.31  
 अतिथिवेद्य  
 अतिथि परायण 183 40  
 सत्कर्ता 184.7  
 अतिथि परायण  
 अतिथि परायण 183.40 ⇨  
 अतिथि परायणता  
 अतिथि परायणता 183.12 ⇨  
 अतिथि पूजक  
 सत्कर्ता 184.7  
 अतिथि पूजा  
 सत्कार 184.1  
 अतिथि भवन  
 गैस्ट हाउस 1090.31  
 अतिथि भाव  
 अस्थायी वास 618.10  
 अतिथि यज्ञ  
 यज्ञ सूची 753.2  
 सत्कार 184.1  
 अतिथि शाला  
 गैस्ट हाउस 1090.31  
 अतिथि सेवा  
 सत्कार 184.1  
 अतिबंधुर  
 उर्दती (जंतु) 144.19  
 अति दानी  
 दानवीर 641.28  
 अति दुःख  
 क्लेश 392.3  
 अति दुस्साह  
 दुस्साह्य 873.15  
 अति दूर  
 सुदूरस्थ 32.8

- अति दूरता  
सुदूरता 32.2
- अतिद्वेष  
प्रधान देवता 772.21
- अतिदेश  
अतिदेश 435.13 ⇌  
उपमा 309.7
- अति धनाढ्य  
अति धनाढ्य 626.15 ⇌
- अति धर्मशील  
अति धर्मशील 735.14 ⇌
- अतिनाटक  
मैलोड्रामा 463.8
- अतिनाटकीयता  
अतिनाटकीयता 466.3 ⇌
- अतिनिद्र  
निद्राशील 266.15
- अतिपतन  
विस्मरण 357.5
- अतिपद  
लघन 1097.7
- अति परिवर्तन  
पूर्ण परिवर्तन 532.8
- अति परिश्रम  
अति परिश्रम 493.3 ⇌
- अति परिश्रम करना  
अति परिश्रम करना 493.7 ⇌
- अति परिश्रम पूर्वक  
अति परिश्रम पूर्वक 493.15 ⇌
- अति परिश्रमी  
अति परिश्रमी 493.10 ⇌
- अतिपांडुकंबला  
तीर्थकरः सिंहासन 595.11
- अतिपात  
समयोपरांतता 62.4
- अति पातकी  
महापापी 812.14
- अति पीडा  
तडपडाहट 392.14
- अतिप्रकृत  
परलौकिक 258.14  
भुतहा [भुतही] 759.20
- अतिप्रपद  
अतिक्षेपण 1052.3
- अति प्राकृतिक  
अति प्राकृतिक 762.11 ⇌
- अति प्रियता  
घनिष्टता 704.13
- अतिबल  
अति बलिष्ठ 160.11  
गंधर्व सूची 778.5  
महायोद्धा 934.20
- अति बलिष्ठ  
अति बलिष्ठ 160.11 ⇌
- अति भय  
आतंक 395.5
- अति भयानक  
अति भयानक 395.26 ⇌
- अतिभारग्रस्त  
अतिभारग्रस्त 963.15 ⇌
- अतिभारग्रस्तता  
भारग्रस्तता 963.6
- अतिभार जल  
भारी जल 88.4
- अति भाषण  
वाद्यालता 428.5  
अति भाषण करना  
वाद्याल होना 428.12
- अतिभाषी  
वाद्याल 428.22
- अतिभीत  
आतंकित 395.23
- अतिभोजी  
अत्याहारी 182.15
- अतिभंडित  
अत्यलकृत 227.6
- अति भंद  
अति भंद 1045.12 ⇌
- अति मध्यदिन  
तप मध्याह्न 47.10
- अतिमांस  
मांसल 154.33
- अतिमात्र  
अत्यधिक 944.7
- अतिमान  
असंख्य 944.8
- अतिमानव  
अतिमानव 772.39 ⇌  
अतिमानव 128.3 ⇌  
देव योनि 772.36
- अतिमानुष  
अतिमानव 128.3  
परलौकिक 258.14
- अतिमाय  
संच्यासी 790.11
- अति मिश्रण  
संस्कृत मिश्रण 1008.4
- अति मूर्ख  
वप्राधी 302.9
- अतिरंजन  
संस्क्रिय 1008.15  
संस्कृत मिश्रण 1008.4
- अतिरंजना  
अतिशयोक्ति 434.4
- अतिरंजित  
संस्कृत 1008.29  
सुरंजित 291.16
- अतिरथी  
महायोद्धा 934.20
- अतिरात्र  
मध्य रात्रि 48.11
- अतिरिक्त  
अतिरिक्त 945.4 ⇌  
अधिक 944.5
- अतिरिक्त अंश  
परिशिष्ट 447.10
- अतिरिक्तकंबला  
तीर्थकरः सिंहासन 595.11
- अतिरिक्त कर  
अधिकर 647.6
- अतिरिक्त कलाकार  
ऐकस्ट्रा 464.19
- अतिरिक्त जल निकास  
बाढ़ निकास 23.2
- अतिरिक्तता  
अतिरिक्ततः 945.7 ⇌
- अतिरिक्तता  
अतिरिक्तता 945.1 ⇌
- अतिरिक्त पहिया  
अतिरिक्त पहिया 1077.2 ⇌
- अतिरिक्त प्रति  
अतिरिक्त प्रति 414.3 ⇌
- अतिरिक्त माले  
ग्राहक आकर्षण अतिरिक्त माल 661.9
- अतिरिक्त स्थान  
गुजाइश 33.8
- अतिरूप  
अति सुंदर 157.8
- अतिरेक  
अत्यधिकता 944.2  
तीव्रान्माद 354.8  
भाव विभोरता 358.14  
मर्यादा उल्लंघन 809.2
- अतिरेकी  
असंयमी 809.9
- अतिलंघन  
नियमोल्लंघन 861.11  
सीमातिक्रमण 1001.27
- अतिलाभ  
मुनाफ़ाखोरी 865.16
- अतियुक्त  
प्रलापी 428.24
- अति बक्रता  
अति बक्रता 974.3 ⇌
- अति बर्तुल  
समवर्तुलाकार 976.17
- अति वर्षा  
अति वर्षा 54.6 ⇌
- अतियाद्य  
आतंकवाद 395.6  
कटु भाषण 432.4  
डींग 842.4  
बतंगड 434.5
- अतियादी  
आतंकवादी 395.24  
उग्रवादी 343.21
- अति विकट  
अति घयानक 395.26
- अति वृद्ध  
जर्जर वृद्ध 232.12
- अति वृद्धि  
अपवृद्धि 979.5  
सीमातिक्रमण 1001.27
- अति व्यय  
अपव्यय 644.3
- अति व्ययी  
व्ययशील 644.22
- अति व्याप्ति  
अपवृद्धि 979.5  
अति शक्तिशाली  
महाशक्तिशाली 487.21
- अतिशय  
अत्यधिक 944.7
- अतिशय जलवायु  
अतिशय जलवायु 51.6 ⇌
- अतिशयता  
अत्यधिकता 944.2
- अतिशय विलास  
अतिशय विलास 363.8 ⇌
- अतिशय विलासी  
अतिशय विलासी 363.21 ⇌
- अतिशय विषय भोग  
अतिशय विलास 363.8
- अतिशय विषय भोगी  
अतिशय विलासी 363.21
- अतिशयी  
उत्तम 313.13
- अतिशयोक्ति  
अतिशयोक्ति 434.4 ⇌  
डींग 842.4
- अतिशयोक्ति अलंकार  
अतिशयोक्ति अलंकार 454.3 ⇌
- अतिशयोक्ति यंत्र  
ठपोर हांच 474.31
- अति शीघ्र  
शीघ्रतः 496.13
- अति शीतल  
अति शीतल 105.20 ⇌
- अतिशीलन  
परिशीलन 321.26
- अति शयान  
गहरा काला 289.38
- अति भात  
बहुत धका 492.16
- अति श्रेष्ठ  
उत्तम 313.13
- अति श्वेत  
अति श्वेत 289.67 ⇌
- अति संच्यता  
असंख्यता 944.3
- अति संचयी  
अति संचयी 645.11 ⇌
- अतिसंध  
वचन भंग 338.16
- अति सद्गुण  
बहुगुणता 313.7
- अतिसार  
अतिसार 216.14 ⇌
- अति सुंदर  
अति सुंदर 157.8 ⇌

## अति सूक्ष्म

**अति सूक्ष्म**  
सूक्ष्मतम 980.22  
**अति सूक्ष्माणु**  
सूक्ष्माणु 122.2  
**अतिस्वन**  
अतिस्वन गामी 1044.8  
द्वुतगामी [द्वुतगामिनी] 1044.7  
पराध्वनि 294.3  
**अतिस्वन गामी**  
अतिस्वन गामी 1044.8 ⇨  
**अतिस्वप्न**  
स्वप्निल 267.9  
**अति हास**  
अट्टहास 384.2  
**अतिहासी**  
अट्टहासी 384.16  
**अतीन्द्र**  
विष्णु 768.1  
**अतीन्द्रिय**  
आत्मा 763.1  
इन्द्रियातीत 306.14  
मूल प्रकृति 762.2  
शिव 767.1  
**अतीक्ष्ण**  
कुठित 270.24  
**अतीक्ष्णता**  
कुठितता 270.10  
**अतीत**  
अतीत 63.8 ⇨  
भूत काल 36.10  
भूत कालीन 36.18  
मृत 249.23  
संन्यासी 790.11  
साधु 790.16  
**अतीत काल**  
भूत काल 36.10  
**अतीत कालीन**  
भूत कालीन 36.18  
**अतीत जन**  
अतीत जन 63.4 ⇨  
**अतीत ज्ञान**  
स्मृति 356.1  
**अतीतता**  
अतीतता 63.3 ⇨  
**अतीत प्रेमी**  
अतीतवादी 343.19  
**अतीतवाद विरोधी**  
आधुनिकतावादी 344.6  
**अतीतवादी**  
अतीतवादी 343.19 ⇨  
**अतीत होना**  
अतीत होना 63.5 ⇨  
**अतीव**  
अत्यधिक 944.7  
**अतीव्र**  
विलंबकारी 495.12  
**अतीव्रता**  
मंदगामिता 1045.4

638

**अतुंग**  
अत्योच्च 982.9  
ठिंगना 154.18  
**अतुंगता**  
अत्योच्चता 982.2  
**अतुंद**  
क्षीणकाय 159.13  
**अतुंदिनी**  
छरहरी 154.31  
**अतुंकांत**  
अतुंकांत 452.58 ⇨  
**अतुल**  
अत्यधिक 944.7  
अनुपम 312.17  
असंख्य 944.8  
असमाप्य 943.12  
**अतुलता**  
असमाप्यता 943.4  
**अतुलना**  
असादृश्य 310.1  
**अतुलनात्मकता**  
अनुपमता 312.4  
**अतुलनीय**  
अतुलनीय 962.67 ⇨  
अनुपम 312.17  
असदृश 310.6  
**अतुलनीयता**  
अनुपमता 312.4  
**अतुलित**  
असंख्य 944.8  
असमाप्य 943.12  
**अतुलितता**  
असमाप्यता 943.4  
**अतुल्य**  
अतुलनीय 962.67  
अनुपम 312.17  
असदृश 310.6  
**अतुल्य दर्शन**  
पक्षपातपूर्णता 885.2  
**अतुल्य दर्शी**  
पक्षपाती 885.35  
**अतुष्टि**  
अतुष्टि 362.2  
अप्रसन्नता 381.3  
**अतृप्त**  
अतृप्त 362.6 ⇨  
अपूर्णच्छ 362.5  
**अतृप्ततः**  
अतृप्ततः 362.7 ⇨  
**अतृप्त रड जाना**  
तृप्त न होना 362.4  
**अतृप्ति**  
अतृप्ति 362.2 ⇨  
**अतृषा**  
अतृषा 180.6 ⇨  
**अतृषित**  
अतृषित 180.20 ⇨

**अतृष्ण**  
अतृषित 180.20  
**अतृष्णा**  
अतृषा 180.6  
**अतेज**  
शक्तिहीनता 488.1  
**अतेजस्थिता**  
अतेजस्थिता 839.6 ⇨  
**अतेजस्थी**  
अतेजस्थी 839.10 ⇨  
स्फूर्तिहीन 492.14  
**अत्तक वत्तक**  
अटकन बटकन 476.1  
**अत्ता**  
बड़ी बहन 723.10  
माता 717.7  
मीसी 722.46  
सास 724.7  
**अत्ताबिया**  
ताप्रता 580.24  
**अत्ताबी**  
ताप्रता 580.24  
**अत्तार**  
इत्र व्यापारी 274.29  
**अत्तिका**  
बड़ी बहन 723.10  
**अत्यंत**  
अत्यधिक 944.7  
नितांत अंतिम 995.15  
**अत्यंत आवश्यक**  
शीघ्र करणीय 496.10  
**अत्यंततः**  
पूर्णांशतः 940.15  
**अत्यंतता**  
अत्यधिकता 944.2  
**अत्यंत प्राचीन**  
सुदूर भूत कालीन 36.20  
**अत्यंतीन**  
चलिष्णु 1090.42  
**अत्यधिक**  
अत्यधिक 944.7 ⇨  
**अत्यधिक घुंटा**  
अत्यधिक घुंटा 197.35 ⇨  
**अत्यधिकतः**  
अत्यधिकतः 944.12 ⇨  
**अत्यधिकता**  
अत्यधिकता 944.2 ⇨  
**अत्यधिक लाड़**  
अत्यधिक लाड़ 721.4 ⇨  
**अत्यधिक लाड़ करना**  
अत्यधिक लाड़ करना 721.10 ⇨  
**अत्यधिक लाड़ा**  
अत्यधिक लाड़ा 721.16 ⇨  
**अत्यधिक लाड़ापन**  
अत्यधिक लाड़ापन 721.5 ⇨  
**अत्यय**  
कोटि 936.1  
व्यतीति 74.1

**अत्यलंकृत**  
अत्यलंकृत 227.6 ⇨  
भव्यदृश्यतापूर्ण 402.4  
**अत्यलंकृतता**  
भव्य दृश्यता 402.2  
**अत्यल्प**  
अत्यल्प 942.16 ⇨  
**अत्यल्पतः**  
अत्यल्पतः 942.24 ⇨  
**अत्यल्पता**  
अत्यल्पता 942.2 ⇨  
सूक्ष्मता 980.2  
**अत्याग**  
परिग्रह वृत्ति 359.9  
**अत्यागी**  
आसक्त 365.5  
**अत्याचार**  
अत्याचार 835.3 ⇨  
**अत्याचार (दे.)**  
निर्दयता 835.2  
न्यायहीनता 874.3  
पददलन 911.5  
**अत्याचार करना**  
अत्याचार करना 835.6 ⇨  
**अत्याचार कृत**  
अत्याचारित 835.12  
**अत्याचार सहन**  
अत्याचार सहन 835.4 ⇨  
**अत्याचार सहन कर्ता**  
अत्याचार सहन कर्ता 835.14 ⇨  
**अत्याचार सहना**  
अत्याचार सहना 835.7 ⇨  
**अत्याचारित**  
अत्याचारित 835.12 ⇨  
**अत्याचारिता**  
अत्याचार 835.3  
नादिर शाही 884.3  
**अत्याचारी**  
अत्याचारी 835.13 ⇨  
**अत्याचारी (दे.)**  
निर्दय 835.10  
पददलन कर्ता 911.17  
हिंसक 251.31  
**अत्याधिक जनाकीर्ण**  
अत्याधिक जनाकीर्ण 616.30 ⇨  
**अत्यावरयक**  
अत्यावरयक 524.23 ⇨  
**अत्याहार**  
अत्याहार 182.4 ⇨  
**अत्याहार करना**  
अत्याहार करना 182.11 ⇨  
**अत्याहारी**  
अत्याहारी 182.15 ⇨  
**अत्युक्ति**  
अतिशयोक्ति 434.4  
**अत्युक्ति अलंकार**  
अतिशयोक्ति अलंकार 454.3



अत्युग्र	चार वेद सूची 740.28	अदब क्रायवा	अदर्शनीय
अति आविष्ट 371.9	अध्वर्षवेदः उपषेद	शिष्टता 733 7	अदर्शनीय 401.11 ⇨
अति क्रुद्ध 373.30	आयुर्वेद 740.37	अदबकार	कुडील 155.5
अत्युष्ण	वास्तु वेद 740.39	साहित्य लेखक 448.2	कुरूप 156.4
अत्युष्ण 982.10 ⇨	अथवा	अद बद कर	अदर्शनीयता
अत्युष्णता	ऋषि मुनि सूची 789 17	हठपूर्वक 349 15	कुरूपता 156.2
अत्युष्णता 982.3 ⇨	ब्रह्माः पुत्र सूची 766.10	अदबवा कर	अदर्शित
अत्युत्तम	ब्राह्मण 731.13	अवरयमेवः उक्ति सूची 68.23	अनभिव्यक्त 429.19
उत्तम 313.13	अथवा	अदब नवाज़	अदल
सर्वगुण संपन्न 313.17	अथवा 945.13 ⇨	साहित्य प्रेमी 400 18	अरीन्य 932.38
अत्युत्सास	अथ से इति तक	अदब लिहाज़	न्याय 874.1
सुख प्राप्ति 342.2	आद्योपांततः 940 16	सम्मान 854.3	अदल बदल
अत्युष्ण	अथाह	अदबी	उद्यल पुथल 532.4
अति उष्ण 104 20	अगाध्य 984.10	साहित्यिक 450 32	प्रतिस्थापना 1036.8
अत्र	असंख्य 944.8	अदबी जलसा	विनिमय 636.3
यहाँ 30.5	असमाप्य 943 12	साहित्य गोष्ठी 694 8	अदल बदल कर
अत्र कुशलं तत्रास्तु	ईश्वर 764 1	अदभुत	विधिधतः 310.11
पत्रारंभः संशोधन आदि सूची 444 41	समुद्र 24.1	धमत्कारी 379 10	अदला बदला
अत्रस्त	अथाहता	अदम	विनिमय 636.3
साहसी 394 13	असंख्यता 944 3	अनुपलब्धता 942.4	अदला बदली
अत्रि	असमाप्यता 943.4	अदम-	प्रतिस्थापना 1036.8
ऋषि मुनि सूची 789 17	अथाह प्रेम	रहितः उपसर्ग सूची 1007.5	अदलीय
ब्रह्माः पुत्र सूची 766.10	प्रेम भाव 752 15	अदम	अपक्षधर 887.9
शिव 767.1	अथाह में पढ़ना	रहितता 1007.1	अदवाहन
सप्तार्षि मंडलः ऋषि सूची 3 11	संकट में पढ़ना 909.11	अदम तशाबुद	पैताना 594 21
सप्तार्षि महाभारत 789 13	अदंड	अहिंसा 250 4	अदवान
अत्रिगुण	करमुक्त 647 11	अहिंसा आंदोलन 904.4	अदवान 570.10 ⇨
त्रिगुणातीत 762 13	अदंत	अदम तामील	रस्ती सूची 570.8
अत्रिज	अदंतुरित 144 17	अकार्यान्ययन 505.6	अदवायन
घंद्रमा 8.2	दूटे दाँत वाला 144.18	अदम मौजूबगी	अदवान 570.10
अत्रिजात	पूवा 773 37	अनुपस्थिति 1022.2	अदवान
द्विज 731.7	अदंतुरित	अदमित	अदंतुरित 144.17
अत्यरा	अदंतुरित 144.17 ⇨	अपराजित 913.6	अदांत
विलंब 495.1	अदंत्य	अदम्य	अपराजित 913.6
अथ	कडा [कड़ी] 197.25	अजेय 515.27	अदा
अध्यायः आरंभ सूचना 447.4	अदंभ	अदम्य 5:9.28 ⇨	अदा 860.4 ⇨
आरंभ 994.3	अनभिमान 859.1	नियंत्रणहीन 900.8	अभिनय 464 2
इस के उपरांत 39.19	अदंभी	प्रबल 487.24	कला शैली 397.14
उत्तर काल में 60.17	दर्पहीन 859.8	अदम्यता	कार्य विधि 514.1
वर्तमान काल 36 13	अदक्ष	अदम्यता 519.12 ⇨	भुगतान कृत 634.25
वर्तमान में 36.33	अप्रवीण 304.9	प्रबलता 487.6	मूल्य प्रदत्त 664.29
शुभ आरंभः उक्ति सूची 521.9	अदक्षता	अदया	अदा (दे.)
अथकान	अप्रवीणता 304.4	अदया 835 1 ⇨	नाज़ नज़रा 880.1
अथकान 493.5 ⇨	कलाहीनता 403.1	अदयालु	अदाएँ करना
अथक	अदक्षिण	अदयालु 835.8 ⇨	अदा दिखाना 860.14
और 945.10	वाम. पार्श्वीय 997.22	अमायुक 358.30	अदा करना
और भी 945.11	अदब	अदरक	भुगतान करना 634.19
अथरा	अदद 948.2 ⇨	अदरक 278.2 ⇨	मंथित करना 468.32
नाँद 679.36	अदन	अदरक जैसा कंद	मूल्य देना 664.22
अथरी	बागो अदन 259.3	प्रथिल कंद 111.11	अदाकार
अथरी 679.42 ⇨	भक्षण 181.10	अदर्य	अभिनेता 464.5
अथर्व	अदना	दर्पहीन 859.8	अदाकारा
अथर्ववेद 740.29	नगण्य 853.10	अदर्यी	अभिनेत्री 464.6
अथर्वण	लघुकाय 154.28	दर्पहीन 859.8	अदाकारी
अथर्ववेद 740.29	अदब	अदर्शन	अभिनय 464.2
शिव 767.1	सम्पीकरण 733.1	अनवलोकन 284.2	अदातव्य
अथर्ववेद	सम्मान 854.3	अनुपलब्धता 942.4	अदेय 639.21
अथर्ववेद 740.29 ⇨	साहित्य 450.1	रहस्य रक्षा 823.8	

## अदा दिखाना

अदा दिखाना  
अदा दिखाना 860.14 ⇨  
अदान  
दानहीनता 639.10  
अदान करना  
भुगतान न करना 639.11  
अदानी  
अदानी 639.28 ⇨  
अदानीत्व  
दानहीनता 639.10  
अदाबंदी  
क्रिस्तबंदी 634.12  
अदाबाज़  
अदाबाज़ 860.19 ⇨  
अदाय  
अदेय 639.21  
अदायगी  
अभिनय 464.2  
भुगतान 634.3  
मंचन 468.1  
मूल्य प्रदान 864.9  
संवाद उच्चारण 465.8  
अदायगी आदेश  
पे आर्डर 632.27  
अदायागत  
अदायागत 623.28 ⇨  
अदायागतता  
अदायागतता 623.20 ⇨  
अदायाद  
पृथकपिंड रिश्तेदार 729.9  
अदाधिक  
पृथकपिंड रिश्तेदार 729.9  
अदायित्व  
दायित्वहीनता 896.1  
अदार  
विधुर 804.19  
अदालत  
न्यायालय 874.5  
न्यायालय भवन 874.11  
अदालती  
न्याय विषयक 874.33  
अदालती चिकित्सा  
विधिक चिकित्सा 173.4  
अदालती समन  
समन 875.17  
अदायता  
ठनाठनी 708.6  
शत्रुता 708.1  
अदावतपेशा  
कलहप्रिय 708.13  
अदायती  
वैमनस्यपूर्ण 706.21  
अदिति  
अदिति 787.7 ⇨  
आकाश गंगा 1.14  
आदित्यः माता 777.3  
ईश्वर 784.1  
गाय 127.10

पृथ्वी 9.1  
प्रकृति 782.1  
माता 717.7  
वाचा 299.1  
समुद्रि 626.1  
स्वाधीनता 900.1  
अदिति (अवतार)  
देवकी 771.61  
अदितिज  
आदित्य 777.1  
देयता 772.1  
अदिति नंदन  
देयता 772.1  
अदितिः पुत्र  
अदिति पुत्र 787.8 ⇨  
अदिति संतान  
आदित्य 777.1  
अदिति सुत  
सूर्य 8.1  
अदिन  
दुर्भाग्य 260.18  
अदिव्य  
इहलौकिक 258.13  
अदिष्ट  
अनियत 68.18  
अदीक्षित  
अदीक्षित 321.39 ⇨  
अदीन  
तेजस्वी 839.9  
विशालहृदय 817.11  
अदीनात्मा  
तेजस्वी 839.9  
अदीप्त  
अंधकारपूर्ण 286.14  
धुंधला [धुंधली] 286.17  
अदीप्ति  
धुंधलापन 286.8  
अदीब  
साहित्य लेखक 448.2  
अदीम  
अनुपलब्ध 942.18  
अपरिष्कृत चर्म 582.27  
अदूर  
निकट में 31.9  
अदूरता  
निकटता 31.1  
अदूरदर्शी  
अदूरदर्शी 302.13 ⇨  
अदृढ़  
अदृढ़ 159.16 ⇨  
अल्प कालीन 38.8  
जंगम 1037.18  
दीर्घहीन 395.27  
परिवर्तनशील 532.17  
विघलनशील 501.12  
अदृढ़ता  
अदृढ़ता 159.6 ⇨  
अल्प कालीनता 38.3

परिवर्तनशीलता 532.2  
शिथिलकायता 159.5  
अदृढ़मत  
दृढ़मतहीन 344.12  
अदृढ़ावलंबन  
विघलन 501.4  
अदृश्य  
अदृश्यमान 282.20  
असमक्ष 1022.6  
अस्तगत 5.30  
ईश्वर 764.1  
गुप्त 824.20  
छू मंतर कृत 474.39  
प्रारब्ध 260.1  
विलुप्त 824.24  
अदृश्य कर्ता  
विलोपक 824.25  
अदृश्य कारक गोली  
जादुई गोली 474.21  
अदृश्यताः  
अस्पष्टतः 823.15  
अदृश्यता  
अदृश्यता 282.10 ⇨  
असमक्षता 1022.1  
विलोप 824.7  
अदृश्यभूत  
विलुप्त 824.24  
अदृश्यमान  
अदृश्यमान 282.20 ⇨  
अदृश्य मुद्रण  
वाटर मार्क 419.7  
अदृश्य स्थान  
अदृश्य स्थान 33.2 ⇨  
अदृश्य होना  
अदृश्य होना 282.16 ⇨  
विलुप्त होना 824.17  
अदृष्ट  
अनवलोकित 284.49  
अस्तगत 5.30  
कर्मफल 504.10  
पूर्व कर्मफल 260.9  
प्रारब्ध 260.1  
विलुप्त 824.24  
अदृष्ट नियंता  
प्रारब्ध विधाता 260.7  
अदृष्टपूर्व  
अभूतपूर्व 312.18  
अदृष्टपूर्वता  
अभूतपूर्वता 312.5  
अदृष्ट फल  
कर्मफल 504.10  
प्रारब्ध 260.1  
अदृष्ट भुगतान  
कर्मफल भुगतान 260.22  
अदृष्ट भोगना  
कर्मफल भुगतान 260.22  
अदृष्ट भोगी  
कर्मफल भोगी 260.32

अदृष्टिगोचर  
अदृश्यमान 282.20  
अदृष्टिगोचरता  
अदृश्यता 282.10  
अदेखा [अदेखी]  
अनवलोकित 284.49  
अदेय  
अदेय 639.21 ⇨  
अदेय  
अधिशुद्ध 219.8  
असुर 783.6  
धर्महीन 735.15  
अदेयता  
असुर 783.6  
अदेयमातृक  
वर्षाहीन 54.20  
अदेह  
कामदेय 773.12  
निराकार 967.13  
अदैय  
कर्तृत्व अधीनता 260.3  
अदैहिक  
अशारीरिक 139.12  
अदोलन  
निश्चलता 1038.2  
अदोलित  
निश्चल 1038.8  
अद्धम  
अर्ध बिंदु 971.3  
मध्य बिंदु 996.2  
अद्धम में  
कार्य मध्य में 996.9  
अद्धा  
अद्धा बोलत 678.2  
आधा साइज़ 961.4  
काउंटरफ़ोइल 415.24  
छोटी नौका 1072.13  
नौका सूची 1072.3  
मद्य 209.1  
अद्धा [अद्धी]  
अर्ध मात्रिक 946.16  
आधा 949.37  
अद्धा बोलत  
'अद्धा बोलत 678.2 ⇨  
अद्धन  
आधा अदन 259.3  
अद्धभूत  
अभूतपूर्व 312.18  
जिज्ञासाजनक 305.43  
विलक्षण 312.16  
विष्णु 768.1  
अद्धभूत अर्थों से युक्त कथा  
वृहत्कथा 450.12  
अद्धभूत कार्य  
घनत्कार 379.4  
अद्धभूतता  
अभूतपूर्वता 312.5  
विलक्षणता 312.3

अद्भुत रस  
अद्भुत रस 455.12 ⇨  
नवरस सूची 455.11  
अद्भुतस्वन  
शिव 767.1  
अद्भुत होना  
विलक्षण होना 312.11  
अद्भुतालय  
अजायब घर 869.16  
अद्य  
आज 46.11  
वर्तमान काल 36.13  
वर्तमान मे 36.33  
अद्य काल  
वर्तमान काल 36.13  
अद्यतन  
आधुनिक 64.7  
अद्यतनता  
आधुनिकता 64.1  
अद्यतनीय  
आधुनिक 64.7  
अद्य दिन  
आज 46.11  
अद्यापि  
अब तक 39.14  
अद्यावधि  
अब तक 39.14  
अद्यावधिक  
वर्तमान कालीन 36.21  
अद्यैव  
वर्तमान मे 36.33  
अद्भ्य  
सधन 81.15  
अद्भि  
पर्वत 16.3  
पाषाण 99.1  
वृक्ष 111.18  
सात. उपमान सूची 948.30  
अद्भि कुक्षि  
गुहा 15.9  
अद्भिज  
शिलाजीत 84.12  
अद्भिजा  
गंगा नदी 20.10  
पार्वती 776.9  
अद्भि ज्ञोणी  
घाटी 16.16  
अद्भिस्तार  
लोहा 83.7  
शिलाजीत 84.12  
अद्भिरीरा  
हिमालय 17.7  
अद्भिोध  
सौमनस्यपूर्ण 705.30  
अद्भिोड  
सौमनस्य 705.18  
अद्भ्य  
न्याय 874.1

अद्भ्य परवर  
न्यायप्रिय 874.36  
अद्भ्य  
एकमात्र 946.20  
अद्भिज  
निम्न वर्ण 731.9  
निम्न वर्णीय 731.33  
अद्भिज समाज (पुराना)  
अकुलीन जन 728.10  
अद्भितीय  
अनुपम 312.17  
एकमात्र 946.20  
गौतम बुद्ध 793.1  
विलक्षण 312.16  
अद्भितीयता  
अनुपमता 312.4  
एकमात्रता 946.10  
अद्भितीय योद्धा  
अद्भितीय योद्धा 934.16 ⇨  
अद्भ्ये  
सौमनस्य 705.18  
अद्भ्येपूर्ण  
सौमनस्यपूर्ण 705.30  
अद्भ्येपी  
ईश्याहीन 709.7  
अद्भ्येत्  
अद्भ्ये ईश्वर 764.6  
ईश्वर. अद्भ्येत्ता 764.5  
एकाकार 967.14  
ब्रह्म 764.24  
स्वजन भावना 725.2  
अद्भ्ये ईश्वर  
अद्भ्ये ईश्वर 764.6 ⇨  
अद्भ्येत्ता  
अद्भ्ये भाव 752.8  
ईश्वर अद्भ्येत्ता 764.5  
एकाकारता 967.3  
अद्भ्येत् ब्रह्म  
अद्भ्येत् ब्रह्म 764.27 ⇨  
अद्भ्येत् भाव  
अद्भ्येत् भाव 752.8 ⇨  
अद्भ्येत्तयाव  
अद्भ्येत्तयाव 760.8 ⇨  
अद्भ्येत्तिक (ब्र)  
योगिक 1008.10  
अद्भ्येत्थ  
ईश्वर: अद्भ्येत्ता 764.5  
अद्भ्येत्त वस्तु  
विलक्षण वस्तु 312.6  
अद्भ्येत्  
निम्नत: 983.6  
अद्भ्येत्  
अर्धरिक्त 1005.8  
अद्भ्येत्तयाव [अद्भ्येत्तयाव]  
अल्प पक्व 195.79  
अधिचारित 330.24  
नौसिद्धिया 304.10  
पूर्वजात 62.19

अधकचरापन  
पूर्वजातता 62.7  
अधकच्छा  
दलवों तट 25.17  
अधकपाली  
आधासीसी 392.7  
अधकखिला [अधकखिली]  
अर्ध प्रस्फुटित 119.11  
अधकखुला [अधकखुली]  
अर्ध मुकुलित 120.9  
अधकगला [अधकगली]  
अधकगला [अधकगली] 197.33 ⇨  
अधकचना  
गेहूँ चना 187.20  
अधकजला अंगारा  
अधकजला अंगारा 106.13 ⇨  
अधकनंगा [अधकनंगी]  
अर्ध नग्न 590.17  
अधकनाड्य  
निर्धन 627.20  
अधकनान्न  
अधकनान्न 629.6 ⇨  
अधकन्य  
असमृद्ध 627.16  
दुर्भाग्यशाली 260.34  
अधकन्यवाद  
अकृतज्ञता 833.3  
अधकपका [अधकपकी]  
अल्प पक्व 195.79  
अधकपका [अधकपकी]  
अल्प शिक्षित 321.43  
अधकबना [अधकबनी]  
अपूर्ण रचित 528.8  
अधकबर  
कार्य मध्य 996.5  
अधकबीच  
असमाप्तत: 523.7  
कार्य मध्य में 996.9  
मध्य बिंदु पर 996.8  
अधकमरा [अधकमरी]  
अर्धरिक्त 1005.8  
अधकम  
अधकम 840.4 ⇨  
अधकम पुरुष 840.3  
कामुक 237.14  
दुर्जन 818.5  
निकृष्टतम 314.7  
पापी 812.12  
लज्जाहीन 848.8  
लक्षणा 811.8  
ध्यमिचारी 806.10  
अधककाम्य  
धित्रालंकार 454.7  
अधकजन  
अधकजन 840.2 ⇨  
अधकमता 840.1 ⇨

अधकम पुरुष  
अधकम पुरुष 840.3 ⇨  
अधकमरा [अधकमरी]  
अर्ध मृत 249.30  
अधकमांग  
पैर 149.12  
निकृष्टतम 314.7  
अधकमुदा [अधकमुदी]  
अर्ध मुकुलित 120.9  
अधकमुआ [अर्धकमुदी]  
अर्ध मृत 249.30  
अधक  
ओष्ठ 143.2  
दक्षिण 29.10  
निचला ओष्ठ 143.3  
निम्न 983.5  
अधककाया  
शरीर. निम्न भाग 139.6  
अधकरज  
पान लाली 213.23  
अधकरपान  
चुंबन 237.9  
वर्जित दृश्य सूची 463.28  
अधकराग  
लिपस्टिक 225.25  
अधकरात  
मध्य रात्रि 48.11  
अधकराधर  
निचला ओष्ठ 143.3  
अधकरास्ते  
कार्य मध्य में 996.9  
अधकरेत्तर  
अल्पाधिक 941.9  
उत्तम अनुत्तम 313.10  
अधकरोष्ठ  
निचला ओष्ठ 143.3  
अधकर्म  
अधकर्म 773.33 ⇨  
कुधर्म 735.3  
दुश्चरित्रता 811.1  
न्यायहीनता 874.3  
पाप 812.1  
ब्रह्मा: पुत्र सूची 766.10  
अधकर्म कर्म  
पाप 812.1  
अधकर्म: गुण सूची  
अधकर्म: गुण सूची 773.34 ⇨  
अधकर्म युद्ध  
नियम विरुद्ध युद्ध 907.33  
युद्ध अपराध 907.34  
अधकर्मस्तनु  
शिव 767.1  
अधकर्मधिकारी जन  
धार्मिक जन साधारण 743.1  
धर्महीन 735.15  
पापी 812.12

## अधवल

अधवल  
अश्वेत 289.86  
अधरधर  
रेंगेने वाला 1084 48  
अधसना [अधसनी]  
अर्ध प्रगाढ़ 80.9  
अधस्तल  
नितल 985 9  
अधात्विक खनिज  
अधात्विक खनिज 92.4 ⇨  
अधान्य  
असमृद्ध 627 16  
अधारिया  
गाड़ीवान सीट 595 45  
अधारी  
रकसीक 1087 34  
अधार्मिक  
धर्महीन 735 15  
अधार्मिकता  
नास्तिकतावाद 760 14  
अधि  
अतिरिक्त 945 4  
अधिक 944 5  
अधिकेठ  
गलप्रथि 132 10  
अधिक  
अतिरिक्त 945 4  
अधिक 944.5 ⇨  
अधिकांशीय 939.14  
सुलभ 943.10  
अधिक अंश  
अधिक अंश 939.4 ⇨  
अधिक अच्छा  
उत्तमतर 313.12  
अधिक अच्छापन  
उत्तमतरता 313.2  
अधिक कोण  
अंतरघ्न कोण 970.8  
अधिक कोण 970.5 ⇨  
अधिक क्या वस्तु...  
सारांश: उक्ति सूची 449.34  
अधिकता:  
अधिकतः 944.11 ⇨  
अधिकतम  
अधिकतम 944 6 ⇨  
अधिकतर  
प्रायः 73.7  
अधिकतरता  
अधिकता 944 1  
सामान्यता 311 1  
अधिकता  
अधिकता 944.1 ⇨  
अधिकताई  
अधिकता 944.1  
अधिक प्रचलित  
सुलभ 943.10  
अधिक प्रचलितता  
सुलभता 943.2

अधिक प्राप्य  
सुलभ 943.10  
अधिक प्राप्यता  
सुलभता 943.2  
अधिक भाग  
अधिक अंश 939.4  
अधिक मास  
मल मास 43.19  
अधिक मूल्य का  
बहुमूल्य 664.31  
अधिकर  
अधिकर 647.6 ⇨  
अधिकरण  
अधिकार प्रदान 897.6  
अधिग्रहण 635 1  
अध्याय 447.2  
न्यायालय 874 5  
पद नियुक्ति 653 6  
प्रधानता 852 3  
संस्थान 692 3  
अधिकरण कारक  
अधिकरण कारक 425.27 ⇨  
अधिकर्म  
निरिक्षण 284.16  
अधिकर्मा  
निरिक्षक 284.17  
अधिक से कम क्रम  
अवरोह क्रम 991 4  
अधिकांश  
अधिक 944 5  
अधिक अंश 939.4  
बहुसंख्यक 616 28  
अधिकांशतः  
अधिकतः 944.11  
प्रायः 73.7  
अधिकांशीय  
अधिकांशीय 939.14 ⇨  
अधिकार्थ  
अधिकता 944.1  
अधिकार  
अधिकार 897.1 ⇨  
आधिपत्य 899.8  
कथा फल 466 12  
योग्यता 303.1  
सत्ता 899 1  
सुपात्रता 303.2  
अधिकार अंतरण  
स्वत्व अंतरण 622.16  
अधिकार करना  
आधिपत्य करना 899 19  
अधिकार का दावा करना  
अधिकार का दावा करना 897.11 ⇨  
अधिकार के बाहर  
अधिकारहीनता: 898.4  
अधिकार क्षेत्र  
अधिकार क्षेत्र 897.2 ⇨  
अधिकार ग्रहण  
कार्य ग्रहण 653.11

सत्तारोहण 899 14  
अधिकार चलना  
अधिकार चलना 897.10 ⇨  
अधिकारतः  
अधिकारपूर्वक 897.20  
अधिकार त्याग  
स्वत्व परित्याग 622 18  
अधिकार दावा  
अधिकार दावा 897.5 ⇨  
अधिकार दावेदार  
अधिकार दावेदार 897.18 ⇨  
अधिकार देना  
अधिकार प्रदान करना 897 12  
अधिकार न होना  
अधिकार न होना 898.2 ⇨  
अधिकार पत्र  
अधिमोग पत्र 622 4  
प्रदत्त अधिकार पत्र 897.8  
अधिकार पात्र  
अधिकार भागी 897 16  
अधिकारपूर्ण  
अधिकारपूर्ण 897.14 ⇨  
स्वजन भावनापूर्ण 725 6  
अधिकारपूर्णता  
स्वजन भावना 725.2  
अधिकारपूर्वक  
अधिकारपूर्वक 897.20 ⇨  
अधिकार प्रदत्त  
अधिकार प्रदत्त 897.15 ⇨  
अधिकार प्रदत्त व्यक्ति  
अधिकार प्रदत्त व्यक्ति 897.9 ⇨  
अधिकार प्रवर्धक  
अधिकार दावेदार 897.18  
अधिकार प्रवर्धन  
अधिकार दावा 897.5  
अधिकार प्रदान  
अधिकार प्रदान 897.6 ⇨  
अधिकार प्रदान करना  
अधिकार प्रदान करना 897.12 ⇨  
अधिकार प्रदान पत्र  
प्रदत्त अधिकार पत्र 897.8  
अधिकार भागी  
अधिकार भागी 897.16 ⇨  
अधिकार भोगी  
अधिकार भागी 897.16  
अधिकार नीग  
अधिकार दावा 897.5  
अधिकारयुक्त  
अधिकार प्रदत्त 897.15  
अधिकार योग्य  
अधिकार भागी 897.16  
अधिकार विषयक  
अधिकार विषयक 897.13 ⇨  
अधिकार मुक्त  
रायल्टी 621.13  
अधिकार रीना  
अधिकार क्षेत्र 897.2

अधिकार स्थापना  
अधिग्रहण 635.1  
अधिकार हरण  
बेदखली 1036.6  
अधिकारहीन  
अधिकारहीन 898.3 ⇨  
अधिकारहीनतः  
अधिकारहीनतः 898.4 ⇨  
अधिकारहीनता  
अधिकारहीनता 898.1 ⇨  
अधिकार होना  
अधिकार चलन 897 10  
अधिकाराधिकारतः  
अधिकारहीनतः 898 4  
अधिकारामिषेक  
अधिकार प्रदान 897.6  
अधिकारिता  
अधिकार क्षेत्र 897 2  
पदाधिकारिता 652.3  
अधिकारी  
अधिकार दावेदार 897 18  
अधिकार प्रदत्त 897 15  
अधिकार भागी 897 16  
नायक 467 5  
पदाधिकारी 652.4  
पुरुष 764 21  
प्रधान व्यक्ति 852.4  
योग्य 303.14  
शासक 890 5  
सत्ताधारी 899 3  
सुपात्र 303 15  
स्वामी 621.2  
अधिकारीय  
अधिकार विषयक 897 13  
शासकीय 890.20  
स्वामित्वीय 621.22  
अधिकारतरतः  
अधिकारहीनतः 898.4  
अधिकृत  
अधिकार प्रदत्त 897.15  
अधिकार विषयक 897.13  
अधिग्रहीत 635.16  
अनुमति दत्त 337.22  
नियुक्त 653.32  
अधिकृततः  
अधिकारपूर्वक 897.20  
अधिकृतता  
अधिकार 897.1  
अधिकृत सेवा परीक्षा  
घाटई अकाउंटेंट 632.35  
अधिकृत सेवापाल  
घाटई अकाउंटेंट 632.35  
अधिकारा  
बैंक 631.1  
अधिकरण  
अधिलक्षण 1095.4  
अधिकृत  
अधिलक्षित 1095.19

अधिक्षिप्त  
प्रक्षेपित 1052.19  
अधिक्षेत्र  
अधिकार क्षेत्र 897.2  
अधिक्षेपण  
प्रक्षेपण 1052.2  
अधिर्गतव्य  
ज्ञेय 305.38  
अधिगणन  
गणना कर्म 950.11  
अधिगत  
अधिग्रहीत 635.16  
आदत्त 637.6  
स्थिरचित्त 355.6  
अधिगति  
अधिग्रहण 635.1  
अधिगम  
गंतव्य प्राप्ति 1100.3  
धन प्राप्ति 628.2  
बोध प्राप्ति 301.11  
लाभ 646.2  
अधिगल  
गलप्रथि 132.10  
अधिगामी  
अधिलघक 1095.20  
अधिगुण  
विरोधज्ञता 305.17  
अधिगृहीत  
कुरु 635.21  
राष्ट्रीयकृत 635.19  
अधिगोपन  
गोपन 824.1  
अधिग्रह  
जड्डी 635.6  
अधिग्रहण  
अधिग्रहण 635.1 ⇨  
अधिग्रहण करना  
अधिग्रहण करना 635.10 ⇨  
अधिग्रहण कर्ता  
अधिग्रहण कर्ता 635.17 ⇨  
अधिग्रहण त्यक्त  
अधिग्रहण त्यक्त 639.25 ⇨  
अधिग्रहण मुक्त  
अधिग्रहण त्यक्त 639.25  
अधिग्रहणशील  
अधिग्रहणशील 635.18 ⇨  
अधिग्रहणशीलता  
अधिग्रहणशीलता 635.2 ⇨  
अधिग्रहीत  
अधिग्रहीत 635.16 ⇨  
अधिज्ञात  
शिक्षार्जित 321.49  
अधिरत्यका  
पठार 18.2  
अधिदर्शन  
अधिदर्शन 284.19  
अधिदेव  
अधि देतन 643.27

अधिदेव  
इष्ट देवता 772.23  
ईश्वर 764.1  
कुल देवता 772.24  
देवता 772.1  
प्रधान देवता 772.21  
अधि देवता  
इष्ट देवता 772.23  
अधिदैव  
दैविक 772.40  
अधिनव तारा  
महानोवा 3.4  
अधिनाथ  
अध्यक्ष 652.14  
घक्रवर्ती सम्राट 882.27  
महा अध्यक्ष 652.16  
राजा 882.6  
सत्ताधारी 899.3  
अधिनायक  
तानाशाह 882.28  
दल नायक 852.6  
नेता 346.2  
अधिनायकता वाद  
तानाशाही 884.2  
अधिनियम  
अधिनियम 879.5 ⇨  
अधिनियमित  
विधायित 878.31  
अधिनिर्णय  
अधिनिर्णय 877.15 ⇨  
विवाचन पचाट 877.8  
अधिप  
अध्यक्ष 652.14  
अधिपति  
ग्रहाधिपति 261.17  
सत्ताधारी 899.3  
स्वामी 621.2  
अधिपति बनना  
आधिपत्य करना 899.19  
अधिपतीय  
स्वामीय 621.23  
अधिप्रमाणित  
अधिप्रमाणित 327.13 ⇨  
अधिप्राणी  
यानर 127.89  
अधिभूत  
जड़ पदार्थ 78.5  
ब्रह्म 764.24  
भूत विचयक 786.14  
माया 762.9  
अधिभोक्ता  
आधिपत्यधारी 899.0  
अधिभोग  
अधिभोग 622.1 ⇨  
आधिपत्य 899.8  
अधिभोग अधिकार  
अधिभोग अधिकार 622.2 ⇨

अधिभोग पत्र  
अधिभोग पत्र 622.4 ⇨  
अधिभोगी  
अधिभोगी 622.3 ⇨  
अधिभौतिक  
जड़ 78.23  
शारीरिक 139.11  
अधिमत  
अधिमत 877.16 ⇨  
अधिमात्र  
अत्यधिक 944.7  
अधि मास  
मल मास 43.19  
अधिमात्र  
यज्ञीय 753.32  
अधियारिन  
सौत 803.9  
अधियारी  
अर्ध अंशाधिकार 623.10  
अधिरथ  
रथ आरूढ 1082.32  
सारथी 1079.10  
अधिरथ-राधा: पोषित पुत्र  
कर्ण 771.47  
अधिराज  
राजा 882.6  
सम्राट 882.24  
अधिराज्य  
साम्राज्य 881.10  
अधिरूढ़  
ऊर्ध्वगत 1030.23  
अधिरोह  
आरोहण 1082.1  
अधिरोहण  
आरोहण 1082.1  
तीर प्रक्षेपण 1052.5  
अधिलंघक  
अतिक्रामक 1001.42  
अधिलंघक 1095.20 ⇨  
अधिलंघन  
अधिलंघन 1095.4 ⇨  
सीमातिक्रमण 1001.27  
अधिलंघन करना  
पीछे छोड़ना 1095.10  
अधिलंघित  
अधिलंघित 1095.19 ⇨  
अधिलाभ  
बोनस 643.31  
अधिलोक  
ब्रह्मांड 1.1  
ब्रह्मांडीय 1.15  
अधियक्ता  
वकील 874.26  
अधियचन  
बतगड 434.5  
अधियचस्क  
ज्येष्ठ 229.25

अधियर्ष  
लीप ईयर 42.10  
अधिवाचन  
मनोनयन 888.21  
अधिवाचन  
अधियानर 127.90 ⇨  
अधिवाचन (एपवैन)  
वानर विकास क्रम 127.94  
अधियास  
निवासिता 616.1  
अधियासन  
मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 598.9  
सुगधन 274.2  
अधियास भूमि  
बस्ती 615.1  
अधियासित  
सुगधपूर्ण 273.15  
सुगधित 274.31  
अधियासिता  
निवासिता 616.1  
अधियासी  
आयासी 618.25  
नियासी 616.13  
पड़ोसी 31.4  
अधियीक्षण  
अधियीक्षण 284.19 ⇨  
अधिवृद्धि  
गूमड 166.5  
अधि वेतन  
अधि वेतन 643.27 ⇨  
अधिवेत्ता  
द्विपत्नी कर्ता 799.70  
अधिवेद  
द्विपत्नीत्व 799.12  
अधिवेशन  
अधिवेशन 694.14 ⇨  
अधिवेशन (दे.)  
सभा 694.1  
अधिरातलन  
हिमन 105.3  
अधिरातलित  
हिमित 105.23  
अधिभयण  
चूल्हा चढाई 195.16  
अधिभित  
चूल्हे पर चढ़ा 195.62  
अधिष्ठाता  
अध्यक्ष 652.14  
आधिपत्यधारी 899.9  
नियंत्रक 899.12  
संस्थापक 693.10  
सत्ताधारी 899.3  
अधिष्ठान  
आधान स्थान 671.17  
आधार 596.1  
गृह 601.1  
निवासिता 616.1  
बस्ती 619.1

## अधिष्ठान चक्र

शिव 767.1  
संस्था 692.1  
संस्थान 692.3  
सत्ता 899.1  
**अधिष्ठान चक्र**  
चक्र सूची 757.8  
**अधिष्ठापक**  
नियुक्त कर्ता 653.33  
संस्थापक 693 10  
**अधिष्ठापन**  
पद नियुक्ति 653 6  
स्थितन 1020 3  
**अधिष्ठापना**  
मंदिर प्रतिष्ठापना 598 7  
संस्थापना 693 1  
**अधिष्ठापित**  
नियुक्त 653 32  
संस्थापित 693 9  
**अधिष्ठित**  
अधिकार प्रदत्त 897 15  
संस्थापित 693 9  
स्थित 1020 8  
**अधिष्ठित**  
अतिरिक्त पहिया 1077 2  
**अधिसूचना**  
घोषणा 441.10  
**अधिस्थिति**  
स्थिति 495 13  
**अधिष्ठाप**  
टपक 1032 6  
**अधिस्थामी**  
पूर्ण स्वामी 621 5  
**अधिहरण**  
जब्त 635 6  
**अधिहत**  
जब्त 635 22  
**अधीक्षक**  
निर्माण पर्यवेक्षक 599.13  
**अधीक्षण**  
निर्माण पर्यवेक्षण 599 12  
**अधीत**  
अधीत 321 50  
अधिचारित 330.24  
**अधीता**  
अधीता 321 51  
**अधीन**  
अधीनस्थ 652 40  
आयोजन में 655.25  
उत्तरदायी 895 11  
पराधीन 901 8  
शासनधीन 890 19  
**अधीनता**  
अधिकारहीनता 898.1  
अधीनस्थता 652.32  
पराधीनता 901.1  
**अधीनता में**  
पराधीनता 901 12

**अधीनस्थ**  
अधीनस्थ 652.40 ⇨  
**अधीनस्थ कर्मचारी**  
अधीनस्थ कर्मचारी 652.33 ⇨  
नगण्य व्यक्ति 853 4  
**अधीनस्थता**  
अधीनस्थता 652.32 ⇨  
**अधीन होना**  
पराधीन होना 901 4  
शासित होना 890 15  
**अधीर**  
आतुर 496 11  
कापुरुष 395 29  
जट्टबाज 496 12  
धैर्यहीन 395 27  
**अधीर [अधीर]**  
घंघल 860 24  
**अधीरता**  
आतुरता 496.3  
धैर्यहीनता 395 10  
**अधीरा**  
मेघ विद्युत 55 9  
**अधीरा नायिका**  
मान अनुसार नायिका सूची 456 7  
**अधीरा**  
चक्रवर्ती सम्राट 882 27  
पूर्ण स्वामी 621.5  
सत्ताधारी 899 3  
स्वामी 621 2  
**अधीश्वर**  
ईश्वर 764 1  
चक्रवर्ती सम्राट 882 27  
पूर्ण स्वामी 621 5  
सत्ताधारी 899 3  
**अधीन**  
वर्तमान काल 36.13  
वर्तमान में 36 33  
**अधीनतन**  
आधुनिक 64 7  
आधुनिकतम 64 8  
**अधीनतम**  
आधुनिकतम 64.8  
क्रिशनानुकूल 222 18  
**अधीन**  
धूम्रहीन 106 27  
**अधीरा**  
आंशिक 939 11  
**अधीरा [अधीर]**  
अपुष्पित 118 15  
अपूर्ण रचित 528.8  
असमाप्त (कार्य) 523.8  
आंशिक 939 11  
विकलांग 153.15  
**अधीरा कार्य**  
कार्य मध्य 996.5  
**अधीरापन**  
अंशता 939.1  
असमाप्तता 523.2

कार्य असमाप्ति 523.1  
**अधीरा रहना**  
समाप्त न हो पाना 523 5  
**अधीरा होना**  
समाप्त न होना 523.4  
**अधीरे**  
असमाप्ततः 523 R.  
आंशिकतः 939.20  
**अधीरत**  
छलहीन 815 8  
**अधीत**  
अधिकारहीन 898 3  
**अधीति**  
असंयम 809 3  
नियंत्रणहीनता 900 2  
**अधीष्ट**  
लज्जशील 845 11  
विनम्र 733 19  
**अधीष्टतः**  
विनम्रत 733 23  
**अधीष्टता**  
विनम्रता 733 8  
**अधीष्ट**  
अधीष्ट 232 9 ⇨  
वयस्क 229 21  
**अधीष्ट अवस्था**  
अधीष्टता 232 1  
जीवन. चार अवस्था सूची 229 17  
**अधीष्टता**  
अधीष्टता 232 1 ⇨  
**अधीष्ट विषय**  
अधीष्ट विषय 804.16 ⇨  
**अधीष्ट**  
अधिचारणीय 330.25  
**अधीला**  
अधीला 629.7 ⇨  
**अधीली**  
अठग्री 629.5  
**अधीलिव टैप (औं)**  
धैर्य्य सूची 1012 4  
**अधीर्य**  
आतुरता 496.3  
धैर्यहीनता 395.10  
**अधी-**  
निम्न 983 5  
**अधीकर्षक**  
अधीकर्षक 1062.40 ⇨  
**अधीकर्षण**  
अधीकर्षण 1062.21 ⇨  
**अधीकर्षित**  
अधीकर्षित 1062.39 ⇨  
**अधीकाच्छ**  
छोटाछः अधीकाच्छ 609.3  
**अधीकाच्छा**  
अपकाच्छा 535.3  
**अधीकृष्ट**  
अधीकृष्ट 1062.39

**अधीक्षित**  
अधीक्षित 1052.24 ⇨  
**अधीक्षेपण**  
अधीक्षेपण 1052.12 ⇨  
**अधीक्षेपण करना**  
नीचे फेंकना 1052.18  
**अधीगत**  
अधीगत 1031.27 ⇨  
अवनत 535 5  
**अधीगति**  
अधीगमन 1031 5  
अपकाच्छा 535 3  
दुर्दशा 627 8  
दुश्चरित्रता 811 1  
**अधीगमन**  
अधीगमन 1031 5 ⇨  
अवनति 535 1  
**अधीगामी**  
अधीगामी 1031.28 ⇨  
दलानयुक्त 989 10  
**अधीगामी चक्र**  
अवचक्र 973 7  
**अधीगामी वायु**  
अपान वायु 245 15  
**अधीचक्रण**  
अधीचक्रण 1033 9 ⇨  
**अधीजिष्टिका**  
काल 145 10  
**अधीतल**  
नितल 985 9  
भूगर्भ 9 6  
**अधीतलीय**  
नितलीय 985 17  
**अधी दिशा**  
निम्न दिशा 983 2  
**अधी दिशा में**  
निम्नत 983.6  
**अधीनयन**  
अधीवहन 1062.19  
**अधीनिलय**  
नरक 259 6  
**अधीन्युक्त**  
अधीगमनी 1031.28  
**अधीपतन**  
अवनति 535.1  
दुश्चरित्रता 811.1  
विवाह अनिच्छा 806.1  
**अधीपतनकारी**  
अवनतिकारी 535.7  
**अधीपतित**  
अवनत 535.5  
**अधीपरिधान**  
कटि परिधान 586.1  
**अधीपातन**  
अवपातन 1031:3  
**अधी पारपथ**  
अधी पारपथ 1064.18 ⇨

<b>अधो प्रवाह</b>	<b>अधोस्वस्तिक</b>	<b>अध्यातव्य</b>	<b>अध्यास</b>
अधो प्रवाह 21.18 ⇨	निम्न विदु 983.4	अविचारणीय 330.25	घ्नम 342 1
<b>अधोविदु</b>	<b>अध्यक्ष</b>	<b>अध्यात्म</b>	<b>अध्याहरण</b>
निम्न विदु 983 4	अध्यक्ष 652.14 ⇨	अध्यात्म 761.1 ⇨	अध्याहरण 325.10 ⇨
<b>अधोभाग</b>	गृहपति 235.5	आत्मा 763.1	अनुमानन 308.9
निम्न भाग 983 3	दृश्यमान 282 19	आत्मा विषयक 763.9	तर्कण 325.9
<b>अधोभूमि</b>	नगर निगम अध्यक्ष 892 9	ब्रह्म 764 24	वाक्य पूर्ति 424 3
तलहटी 16 13	नियंत्रक 899 12	<b>अध्यात्म चिंतक</b>	<b>अध्याहर्ता</b>
<b>अधोमार्ग</b>	निरीक्षक 284 17	अध्यात्मज्ञ 761 25	अनुमान कर्ता 308 21
सुरग 1065 1	प्रत्यक्ष दर्शी 284.51	दार्शनिक 760 3	ताकिक 325.24
<b>अधोमुख</b>	राष्ट्र अध्यक्ष 882.1	<b>अध्यात्म चिंतन</b>	<b>अध्याहार</b>
अधोमुख 1023.14 ⇨ *	राष्ट्रपति 882.2	अध्यात्म 761 1	अनुमान 308.8
<b>अधोमुखतः</b>	सत्ताधारी 899 3	दार्शनिक कर्म 760 2	वाक्य पूर्ति 424.3
अधोमुखता 1023 18 ⇨	सदन अध्यक्ष 889 9	<b>अध्यात्मज्ञ</b>	<b>अधीत</b>
<b>अधोमुखता</b>	सभापति 694 18	अध्यात्मज्ञ 761.25 ⇨	अधीत 321.50 ⇨
अधोमुखता 1023 4 ⇨	<b>अध्यक्ष (वे.)</b>	<b>अध्यात्म ज्ञानी</b>	<b>अधुपद्र</b>
<b>अधोमुख होना</b>	प्रधान व्यक्ति 852.4	अध्यात्मज्ञ 761.25	ऊँट गाड़ी 1071 35
अधोमुख होना 1023 8 ⇨	<b>अध्यक्षता</b>	<b>अध्यात्म दर्श</b>	<b>अध्युह</b>
<b>अधोमुखी</b>	अध्यक्षता 652 13 ⇨	धर्म शिक्षक 742 21	उत्त्रनित 1025 7
अधोमुख 1023.14	<b>अध्यक्षर</b>	<b>अध्यात्मवाद</b>	<b>अध्येता</b>
<b>अधोरेखांकन</b>	ओम् 741 19	अध्यात्मवाद 760.11 ⇨	अध्येता 321.51 ⇨
अधोरेखांकन 968 8 ⇨	<b>अध्ययन</b>	<b>अध्यात्म विद्या</b>	ध्यानी 331 12
<b>अधोरेखांकित</b>	अध्ययन 321.23 ⇨	अध्यात्म 761 1	मीमांसक 427 30
अधोरेखांकित 968 39 ⇨	तथ्यान्वेषण 336 1	दर्शन शास्त्र 760 1	<b>अध्येता [अध्येत्री]</b>
<b>अधोरेखांकित करना</b>	ध्यानन 331 2	<b>अध्यात्म वेत्ता</b>	अध्येता 321 51
अधोरेखांकित करना 968.37 ⇨	मीमांसा 427 12	दार्शनिक 760 3	<b>अध्येय</b>
<b>अधोरेखा</b>	विवेचना 427. 1	<b>अध्यादेश</b>	अविचारणीय 330.25
अधोरेखा 968 7 ⇨	<b>अध्ययन कक्ष</b>	अध्यादेश 878 5 ⇨	<b>अभुय</b>
शीर्षक अधोरेखा 968 9	अध्ययन कक्ष 614.8 ⇨	<b>अध्यापक</b>	अत्य कालीन 38 8
<b>अधोलंब</b>	शिक्षात्म्य कक्ष 321 12	अध्यापक 323 8 ⇨	धैर्यहीन 395.27
साहल 559 52	<b>अध्ययन करना</b>	<b>अध्यापक वर्ग</b>	परिवर्तनशील 532 17
<b>अधोलिखित</b>	अध्ययन करना 321 35 ⇨	अध्यापक वर्ग 323.10 ⇨	विचलनशील 501.12
अधोलिखित 430 22 ⇨	<b>अध्ययन कर्ता</b>	<b>अध्यापन</b>	सदिग्ध 341.9
<b>अधोलिखितता</b>	अध्येता 321.51	शिक्षकीय प्रवचन 322 6	<b>अभुवता</b>
अधोलिखितता 430 7 ⇨	<b>अध्ययन गोष्ठी</b>	शिक्षण 321 18	परिवर्तनशीलता 532.2
<b>अधोलोक</b>	अध्ययन गोष्ठी 694.6 ⇨	<b>अध्यापन करना</b>	<b>अध्वग</b>
पाताल 258 9	<b>अध्ययन घंटा</b>	शिक्षण करना 321.32	ऊँट 127.27
<b>अधोवर्ती</b>	अध्ययन घंटा 322.7 ⇨	<b>अध्यापन शुल्क</b>	यात्री 1087.2
निम्न 983.5	<b>अध्ययनपूर्ण</b>	शिक्षा शुल्क 665.5	<b>अध्वगा</b>
<b>अधोवस्त्र</b>	विद्वत्तापूर्ण 319 7	<b>अध्यापिका</b>	गंगा नदी 20 10
घोटी 586.15	<b>अध्ययनशील</b>	अध्यापिका 323.9 ⇨	<b>अध्वनि</b>
<b>अधोवहन</b>	पठनशील 321 54	<b>अध्याय</b>	ध्वनिहीनता 295.1
अधोवहन 1062 19 ⇨	<b>अध्ययनशीलता</b>	अध्याय 447.2 ⇨	<b>अध्वनित</b>
<b>अधोवहन करना</b>	अनुशीलन 321 25	शिक्षा पाठ 322.5	अध्वनित 295.5 ⇨
अधोवहन करना 1062.27 ⇨	<b>अध्ययन शुल्क</b>	<b>अध्यायः आरंभ</b>	<b>अध्वपति</b>
<b>अधोवहन कर्ता</b>	शिक्षा शुल्क 665.5	अध्यायः आरंभ 447.3 ⇨	मार्ग निरीक्षक 1067.19
अधोवाहक 1062.37	<b>अध्ययन सत्र</b>	<b>अध्यायः आरंभ सूचना</b>	<b>अध्वर्षु</b>
<b>अधोवायु</b>	अध्ययन सत्र 322.8 ⇨	अध्यायः आरंभ सूचना 447.4 ⇨	अध्वर्षु वेद
अपान वायु 245.15	<b>अध्यवसाय</b>	<b>अध्याय तालिका</b>	यजुर्वेद 740.31
<b>अधोवाहक</b>	अध्यवसाय 489.4 ⇨	विषय सूची 447.7	<b>अध्वत्</b>
अधोवाहक 1062.37 ⇨	<b>अध्यवसाय करना</b>	<b>अध्यायः मुक्त</b>	गंतव्य प्राप्ति 1100.3
<b>अधोस्थ</b>	अध्यवसाय करना 489.7 ⇨	अध्यायः आरंभ 447.3	छाया 286.5
निम्न 983.5	<b>अध्यवसायी</b>	<b>अध्यायः समापक वाक्य</b>	धुंधलका 286.4
<b>अधोस्थापन</b>	अध्यवसायी 489.10 ⇨	अध्यायः समापक वाक्य 447.6 ⇨	<b>अध्वा</b>
आधारण 1019.5	परिश्रमी 493 9	<b>अध्यायः समापन सूचना</b>	पिंडकक्षा 4.1
<b>अधोस्थापित करना</b>	<b>अध्यास</b>	अध्यायः समापन सूचना 447.5 ⇨	मार्ग 1063.1
घरना 1019.10	अविचारित 330.24	<b>अध्याय सूची</b>	
		विषय सूची 447.7	

## अध्वाति

### अध्वाति

- यात्री 1087 2  
 अनंग  
 आकाश 2 1  
 निराकार 967 13  
 मन 351 2  
 अनंगका  
 मौलसिरी 13 20  
 अनंगवती  
 कामुकी 237 15  
 अनंगारि  
 शिव 767 1  
 अनंगी  
 कामदेव 773 12  
 अनंजन  
 निर्गुण ब्रह्म 764 28  
 अनंताकर्मित  
 अनंताकर्मित 238 14 ⇨  
 अनंत  
 अनश्वर 37 9  
 असंख्य 944 8  
 असमाप्य 943 12  
 असीम 1001 34  
 आकाश 2 1  
 ईश्वर 764 1  
 कृष्ण 771 1  
 बलराम 771 74  
 ब्रह्म 764 24  
 ब्रह्मांड 1 1  
 ब्रह्मांडीय 1 15  
 रुद्र 767 34  
 लक्ष्मण 770 49  
 लोकपाल सूची 780 7  
 वासुकि नाग 778 21  
 विष्णु 768 1  
 विष्णु मूर्ति सूची 746 7  
 विष्णु शंख 768 13  
 शाश्वत 37 7  
 शेषनाग 778 22  
 अनंत (शेष)  
 आठ नागराज सूची 778 18  
 अनंत आकाश  
 अंतरिक्ष 2 3  
 अनंत स्थान 33 3  
 अनंत आकाशीय  
 अंतरिक्षीय 2 8  
 अनंत गुण  
 बहुगुणता 313 7  
 अनंतगुणता  
 बहुगुणता 313 7  
 अनंतता  
 अनश्वरता 37 3  
 असमाप्यता 943 4  
 असीमता 1001 3  
 अनंतकृष्टि  
 इंद्र 773.5  
 शिव 767 1

- अनंत देव  
 विष्णु 768.1  
 शेषनाग 778 22  
 शेषशायी नारायण 764.20  
 अनंत नाग  
 आकाश गंगा 1 14  
 अनंत नाथ  
 तीर्थकर सूची 792.2  
 शेषनाग 778 22  
 अनंत पद  
 मोक्ष 257 1  
 अनंत प्रेम  
 प्रेम भाव 752.15  
 अनंतरंग  
 अधनिष्ठ 697 17  
 अनंतरंगता  
 अधनिष्ठता 697 6  
 अनंतरंग से  
 दिखापटी तौर पर 825 7  
 अनंतर  
 उत्तर काल में 60 17  
 उपरांत 39 16  
 निकटस्थ 31 7  
 पुन 73.5  
 सटा [सटी] 31 8  
 अनंतरता  
 उत्तर कालीनता 60 6  
 निकटता 31 1  
 अनंतरूप  
 विष्णु 768 1  
 अनंत लोक  
 मोक्ष लोक 258 10  
 अनंतयान  
 अत्यधिक 944 7  
 अनंत विश्राम  
 मृत्यु 249 1  
 अनंत विश्वीय  
 ब्रह्मांडीय 1 15  
 अनंतशीर्ष  
 विष्णु 768 1  
 शेषनाग 778 22  
 अनंतशीर्षा  
 नाग स्त्री सूची 778.24  
 अनंतश्री  
 विष्णु 768 1  
 अनंत स्थान  
 अनंत स्थान 33.3 ⇨  
 अनंता  
 दूध घास 11.10  
 पार्यती 778 9  
 पृथ्वी 9 1  
 अनंतात्मा  
 विष्णु 768 1  
 अनंताधिपेय  
 ईश्वर 764 1  
 अनंतिम  
 अमंतिम 995.13 ⇨

- अनंती  
 गंडा तावीज़ सूची 759.5  
 अनंत्य  
 असंख्य 944.8  
 असीम 1001.34  
 अनंवर  
 दिग्बर साधु 790.25  
 नग्न 590 16  
 अनंश  
 पूर्णांशिक 940.13  
 अनंशता  
 सर्वता 940 1  
 अन-  
 असदृश 310.6  
 इतर 945 5  
 रहित उपसर्ग सूची 1007.5  
 अनअदायगी  
 अभुगतान 639 1  
 दियाला 646 8  
 अनअहिवात  
 वैधव्य 804 14  
 अनउठी एकी: जूला  
 घपाट 588 19  
 अनकटी फ़सल  
 खड़ी फ़सल 547 4  
 अनकमाया [अनकमाई]  
 अनजित 649.8  
 अनकमाया चमड़ा  
 अपरिष्कृत घर्म 582 27  
 अनकरीब  
 अंदाज़न 947.28  
 आसन्न 67 10  
 निकट भविष्य में 36.35  
 निकट में 31 9  
 अनकस्मात्  
 कारणयुक्त 507 5  
 प्रयोजनतः 508.11  
 अनकहा [अनकही]  
 अकथित 429 20  
 अनकहा रहने देना  
 न कहना 429 12  
 अनकिए  
 अकृततः 505 34  
 अनकिया  
 अकार्यान्वित 505 26  
 असमाप्त (कार्य) 523.6  
 अनकिया [अनकी]  
 अकृत 505.21  
 अनकार  
 निरक्षर 320.5  
 अनका  
 ईर्ष्या 709.1  
 क्रोध 373.1  
 खीज 373.4  
 खेद 380.1  
 नज़र. टीका 710.11  
 अनखाना  
 रुठना 374.11

- अनखाए  
 अनखाए 181.70 ⇨  
 अनखाना  
 खीजना 373.18  
 अनखाया [अनखाई]  
 अप्राप्तभोजन 181 52  
 अनखिला [अनखिली]  
 अप्रस्फुटित 120.12  
 अनखिला फूल  
 कली 115 5  
 अनखी  
 क्रोधी 373.29  
 अनखुला [अनखुली]  
 मुकुलित 120.8  
 रक्षित (रहस्य) 823.14  
 अनगढ़  
 अनगढ़ 545.28 ⇨  
 अपरिष्कृत 533 12  
 असंभ्य 734.14  
 कलाहीन 403 4  
 कुडील 155 5  
 फूहड़ 403 5  
 अनगढ़ता  
 कुडीलता 155 3  
 अनगढ़पन  
 फूहड़पन 403 2  
 अनगला [अनगली]  
 अनगला [अनगली] 197 32 ⇨  
 अनगिन  
 असंख्य 944 8  
 अनगिनत  
 असंख्य 944.8  
 अनगिने  
 असंख्यत 944 13  
 अनगन  
 वैशित 589 25  
 अनग्नि  
 अविवाहित 234 13  
 अनघ  
 अर्जुन 771 36  
 परिपूर्ण 313 14  
 पापहीन 813 9  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767 1  
 अनघता  
 परिपूर्णता 313.5  
 अनघाहा [अनघाई]  
 अनिच्छित 360.10  
 नापसंद 401.9  
 अनघाई  
 अप्रत्याशिततः 376.8  
 प्रारब्धाधीनतः 280.35  
 विघ्नशतः 901.13  
 अनघीता [अनघीती]  
 अनिच्छित 360.10  
 अप्रत्याशित 378.7  
 अनघीन्हा [अनघीन्ही]  
 अपरिचित 897.16



अनघुपका [अनघुपकी]  
अनघुपका [अनघुपकी] 197.19 ⇨  
अनघके  
अवृत्त 362.7  
अनघिवा [अनघिवी]  
अविद्ध 272.8  
अनघिवापन  
अविद्धता 272.1  
अनघुआ [अनघुवी]  
अभुक्त 364.9  
अस्पृशित 269.16  
अनजान  
अख्यात 848.5  
अज्ञ 308.16  
अनजाना [अनजानी]  
अख्यात 848.5  
अज्ञात 306.12  
अपरिचित 697.16  
अनजानापन  
अख्याति 848.2  
अपरिचितता 697.5  
अनजाने  
विधारहीनतः 330.30  
अनजाने में  
विधारहीनतः 330.30  
अनजुका [अनजुकी]  
युतिहीन 1010.25  
अनजुता [अनजुती]  
अहलित 548.49  
अनजुती भूमि  
परती 552.6  
अनजुका [अनजुकी]  
अनमित 1025.9  
अनटिकापन  
खानाबदोशी 1090.5  
अनडैका [अनडैकी]  
अनावृत् 822.29  
अधिधानित 675.19  
अनडैपा [अनडैपी]  
अनावृत् 822.29  
अनत  
अनमित 1025.9  
अनतला [अनतली]  
अनतला [अनतली] 195.74 ⇨  
अनति  
अल्प 942.13  
अनतिक्रमण  
मर्यादा पालन 808.7  
सीमा सम्मान 1001.28  
अनतिक्रमित  
अनतिक्रमित 1001.43 ⇨  
अनतिक्रामक  
मर्यादा पालक 808.15  
अनतिरेक  
संयम 808.8  
अनतीत  
अप्राचीन 84.9

अनतीतता  
अप्राचीनता 64.2  
अनथक  
शिना थके 493.17  
अनथका  
अनथका 493.13 ⇨  
अनथका [अनथकी]  
अनथका 493.13  
अनदेखा [अनदेखी]  
अनवलोकित 284.49  
अभूतपूर्व 312.18  
अनदेखा करना  
अनदेखा करना 284.32 ⇨  
अनदेखापन  
अभूतपूर्वता 312.5  
अनघतन  
प्राचीन 63.6  
अनधिकार  
अधिकारहीन 898.3  
अधिकारहीनतः 898.4  
अधिकारहीनता 898.1  
अपात्रता 304.2  
अनधिकारतः  
अधिकारहीनतः 898.4  
अनधिकारता  
अधिकारहीनता 898.1  
अनधिकार प्रवेश  
घुसपैठ 1094.15  
अनधिकारी  
अधिकारहीन 898.3  
अपात्र 304.7  
अनधिकृत  
अधिकारहीन 898.3  
अनधिकृततः  
अधिकारहीनतः 898.4  
अनधिकृतता  
अधिकारहीनता 898.1  
अनधिगत  
अप्राप्त 639.24  
अनधिगम्य  
अज्ञेय 308.13  
अनधिष्ठित  
अधिकारहीन 898.3  
अनधीन  
स्वाधीन 900.7  
अनधीनता  
अयज्ञा 348.1  
अनधुला कपका  
कोरा वस्त्र 579.2  
अनधुली दाल  
अनधुली दाल 188.6 ⇨  
अननुकूल  
असंगत 439.5  
विरोधी 886.7  
अननुकूलता  
अदया 835.1  
असंगतता 439.1  
असामंजस्य 701.3

विरुद्धता 886.2  
अननुकूल  
मौलिक 397.36  
अननुकूलि  
मौलिक कृति 397.24  
अननुज्ञा  
अननुमति 338.3  
अननुज्ञात  
अनुमति अदत्त 338.35  
अननुबंध  
अननुबंध 338.13 ⇨  
अननुबंधित  
अननुबंधित 338.45 ⇨  
अननुभव  
अभोग 364.1  
अननुभवी  
अभुक्तभोगी 364.11  
अननुभूति  
अनुभूतिहीनता 264.1  
चेतनाहीनता 264.2  
अननुभवत  
अनुमति अदत्त 338.35  
नापसद 401.9  
निषिद्ध 880.12  
अननुमति  
अननुमति 338.3 ⇨  
निषेध 880.1  
अननुमानित  
अप्रत्याशित 376.7  
आकस्मिक 69.10  
अननुमेय  
असंख्य 944.8  
अननुमेयता  
कल्पनातीनता 944.4  
अननुरक्त  
अनासक्त 366.5  
प्रवृत्तिहीन 503.10  
अननुरूप  
असंगत 439.5  
असदृश 310.6  
अननुरूपता  
असादृश्य 310.1  
अननुशासित  
असंयमी 809.9  
अननुष्ठेय  
अकरणीय 505.19  
अनन्न  
अखाद्य आहार 197.2  
अनन्नास  
खाद्य फल सूची 190.2  
अनन्य  
अनुपम 312.17  
अनेतर 945.6  
घनिष्ठ 704.27  
विष्णु 768.1  
समान 309.22  
अनन्यगतिक  
विकल्पहीन 516.5

अनन्यचित  
ध्यानमग्न 331.11  
अनन्यचितता  
तल्लीनता 331.6  
अनन्यता  
अनन्य भाव 752.10  
अनेतरता 945.3  
एकनिष्ठा 826.3  
अनन्यपरता  
एकनिष्ठा 826.3  
अनन्य परायण  
एकनिष्ठ 826.10  
अनन्य शक्ति  
अनन्य भाव 752.10  
एकनिष्ठा 826.3  
अनन्य भाव  
अनन्य भाव 752.10 ⇨  
अनन्यमनस्कता  
तल्लीनता 331.6  
अनन्यमना  
ध्यानमग्न 331.11  
अनन्यमानस  
तल्लीन 331.14  
अनन्याधिकार  
एकाधिकार 621.10  
अनन्योपासना  
अनन्य भाव 752.10  
अनन्य  
असंबंध 715.2  
अनन्वित  
असंगत 439.5  
असंबंधित 715.13  
रहित 1007.3  
अनपंग  
सर्वांग 153.14  
अनपंगता  
सर्वांगता 153.1  
अनपका [अनपकी]  
अपक्व 195.78  
अपरिपाचित 195.66  
अनपकाः प्रवृत्त आहार  
सीधा खाना 197.5  
अनपका शिक्षा  
अनपका शिक्षा 642.9 ⇨  
अनपक  
अशिक्षित 321.42  
निरक्षर 320.5  
अनपका [अनपकी]  
निरक्षर 320.5  
अनपत्न्य  
उत्तराधिकारीहीन 623.26  
अनपदेश  
कुतर्क 325.3  
अनपर  
एकमात्र 946.20  
अनपराध  
अपराधहीन 861.16  
अपराधहीनता 861.3

## अनपराधी

अनपराधी  
अपराधहीन 861.16  
अनपवाद  
अनपवाद 879.13 ⇨  
अनपाकरण  
वचन भंग 338.16  
अनपार्लमेंटरी (अँ)  
संसद अयोग्य 889.25  
अनपाबना  
अनादेय 639.20  
अनपेक्ष  
अनपेक्षी 360.14  
असंबधित 715.13  
इच्छाहीन 360.9  
तटस्थ 887.11  
अनपेक्षा  
अनपेक्षा 360.2 ⇨  
अप्रत्याशा 376.3  
परजन भावना 725.4  
अनपेक्षित  
अनपेक्षित 360.13 ⇨  
अनावश्यक 525.9  
अनिच्छित 360.10  
अप्रत्याशित 376.7  
आकस्मिक 69.10  
अनपेक्षिततः  
अप्रत्याशिततः 376.8  
अनपेक्षितता  
अनावश्यकता 525.3  
अनपेक्षी  
अनपेक्षी 360.14 ⇨  
अनपेक्षा [अनपेक्षी]  
अननुबधित 338.45  
अनबधा [अनबधी]  
अनवशिष्ट 954.18  
अनबदला [अनबदली]  
अपरिवर्तित 533.9  
अनबन  
खटपट 708.3  
ठनाठनी 708.6  
मित्रता विस्थापना 705.16  
वैमनस्य 706.10  
शत्रुता 706.1  
अनबन होना  
मित्रता टूटना 705.24  
अनबना [अनबनी]  
अपरिपाचित 195.66  
अनबना [अनबनी]  
अपूर्ण रचित 528.8  
अरधित 528.6  
अनबसा [अनबसी]  
अनावासित 617.13  
अनबसापन  
अनावासितता 617.3  
अनबिधा [अनबिधी]  
अविद्ध 272.8  
अनबिधापन  
अविद्धता 272.1

अनबीता [अनबीती]  
अध्यतीत 74.4  
अनबुआ खेत  
जुता अनबुआ खेत 551.14  
अनबुआ [अनबुआ]  
अतृप्त 362.6  
अनबुआ घूना  
कली घूना 290.23  
अनबुझे  
अतृप्ततः 362.7  
अनबुलाए  
अनिमंत्रिततः 1056.11  
अनबुलाया [अनबुलाई]  
अनावाहित 1055.12  
अनिमंत्रित 1056.8  
अनबुझ  
असमाधान्य 335.12  
अनबुझ पहेली  
अनबुझ पहेली 333.14 ⇨  
अनबोल  
मौनावलबी 429.23  
अनबोला [अनबोली]  
मौनावलबी 429.23  
वचन अदत्त 338.47  
वाघाहीन 429.25  
अनब्याहा  
अविवाहित 234.13  
अनब्याहापन  
अविवाहितता 234.9  
अनब्याही  
अविवाहिता 234.14  
अनबरा [अनबरी]  
रिक्त 1005.7  
अनबरापन  
रिक्तता 1005.1  
अनभासा [अनभासी]  
नापसंद 401.9  
अनभिग्रह  
भेदभावहीनता 884.31  
अनभिग्रहण  
अनादान 639.8  
अनभिज्ञ  
अज्ञ 306.16  
अप्रवीण 304.9  
अनभिज्ञता  
अनभिज्ञता 306.6 ⇨  
अप्रवीणता 304.4  
अनभिप्रेत  
अनिच्छित 360.10  
अनभिभूत  
अप्रभावित 511.14  
अनभिभूतता  
अपराजितता 913.2  
अनभिभूति  
प्रभावहीनता 511.4  
अनभिमान  
अभिमान 859.1 ⇨

अनभिमानी  
अनभिमानी 859.6 ⇨  
अनभिराम  
असुंदर 156.3  
अनभिरामता  
असुंदरता 156.1  
अनभिलक्षित  
अनिच्छित 360.10  
अनभिलाष  
इच्छाहीन 360.9  
अनभिलाषा  
अमहत्त्वाकांक्षा 508.4  
इच्छाहीनता 360.1  
अनभिलापी  
अनिच्छुक 360.12  
अमहत्त्वाकांक्षी 508.10  
अनभिलाष्य  
अनिच्छनीय 360.11  
अनभियाचन  
अनभिव्यक्ति 429.1  
अनभिव्यजना  
अनभिव्यक्ति 429.1  
अनभिव्यक्त  
अनभिव्यक्त 429.19 ⇨  
अनभिव्यक्ति  
अनभिव्यक्ति 429.1 ⇨  
भाव गोपन 358.11  
अनभिहित  
अपरिभाषित 317.18  
अनभीष्ट  
अनिच्छित 360.10  
अप्रिय 370.5  
नापसंद 401.9  
अनभ्यस्त  
अनुभवहीन 304.8  
अनभ्यस्तता  
अनुभवहीनता 304.3  
अनभ्यास  
अनुभवहीनता 304.3  
अनभना [अनभनी]  
उदास 380.14  
रोगग्रस्त 162.5  
अनभनापन  
उदासी 380.5  
अनभरा [अनभरी]  
अमृत 250.16  
अनभीगे  
अप्रत्याशिततः 376.8  
अयाधिततः 642.23  
अनभारग  
कुधर्म 735.3  
दुश्चरित्रता 811.1  
अनभित  
अनभित 1025.9 ⇨  
अनभिल  
असंगत 439.5  
अनभिला [अनभिली]  
अभिहित 1008.30

अनभुरझाया [अनभुरझाई]  
अन्लान 119.14  
अनमेल  
असंगत 439.5  
असदृश 310.6  
असामंजस्य 701.3  
विशुद्ध 219.7  
सामंजस्यहीन 701.9  
अनमोल  
बहुमूल्य 664.31  
मूल्यातीत 664.30  
अनमोलपन  
मूल्यातीतता 664.10  
अनम्य  
अनम्य 1050.33 ⇨  
अनन्न  
दर्पी 858.13  
धृष्ट 734.20  
अनन्नता  
दर्प 858.5  
अनय  
अनैतिकता 816.1  
कुय्यसन 812.7  
न्यायहीनता 874.3  
अनरंगा [अनरंगी]  
अरजित 291.15  
अनरस  
रसहीन 84.18  
अनरीति  
दुर्व्यवहार 831.1  
अनर्गल  
अप्रासंगिक 439.6  
असंगत 439.5  
बकवासपूर्ण 428.25  
विघारहीन 330.22  
अनर्गलता  
अनर्गलता 353.9 ⇨  
असंगतता 439.1  
अनर्गल प्रलाप  
बकवास 428.7  
अनर्थ  
मूल्यातीत 664.30  
अनर्थ  
अल्पमूल्य 664.32  
अनर्जक  
अनर्जक 649.9 ⇨  
अनर्जन  
अनर्जन 649.1 ⇨  
अनर्जित  
अनर्जित 649.8 ⇨  
अनर्जित आय  
अनर्जित आय 643.5 ⇨  
अनर्जित संपत्ति  
अनर्जित संपत्ति 624.6 ⇨  
अनर्णीत  
विवादित 324.23  
अनर्थ  
दुर्घटना 168.2

**अर्थक**  
अर्थहीन 426 28  
प्रयोजनहीन 509 3

**अर्थक वचन**  
प्रलाप 428 6

**अर्थकारी**  
अपकारक 831 15  
अपकार कर्ता 831 14

**अर्थवर्षा**  
अकल्याण कामी 711 11

**अर्थ बोध**  
गलत फहमी 341 4

**अर्थ**  
अनुपयोगी 525 8  
अयोग्य 304 6

**अनईता**  
अनुपयोगिता 525 2  
अयोग्यता 304 1

**अनलंकृत**  
अनलंकृत 227 5 ⇨

**अनलंकृतता**  
अनलंकृतता 227 2 ⇨

**अनलंकृत भाषा**  
सहज भाषा 421 23

**अनल**  
अग्नि 106 1  
आठ वसु सूची 777 8  
कृष्ण 771 1  
वानर सूची 781 7  
विष्णु 768 1

**अनलगा [अनलगी]**  
हटा [हटी] 32 9

**अनलगापन**  
दिलगनता 1011 2  
हटापन 32 3

**अनल चूर्ण**  
शारुद 927 20

**अनलमुख**  
ब्राह्मण 731 13

**अनललाह**  
अनलहक 741 29

**अनलहक**  
अनलहक 741 29 ⇨  
अहं ब्रह्मास्मि 741 25

**अनली**  
पिंगला नाडी 757 4

**अनलीडिंग (अँ)**  
माल उत्तराई 1061 14

**अनल्प**  
अधिक 944 5

**अनवकाश**  
व्यस्तता 502 4  
सटापन 31 2

**अनवगत**  
अज्ञ 306 16

**अनवगाह्य**  
अगाध्य 984 10

**अनवद**  
अँलीतल 555 26

**अनवद्य**  
सुडील 155 4

**अनवद्या**  
अपसरा सूची 782 3

**अनवधान**  
ध्यानहीनता 331 3

**अनवधि**  
अवधिहीन 39 10

**अनवनत**  
अनमित 1025 9

**अनवरत**  
अधिराम 1049 10  
अधिरामत 1049 16  
क्रमिक 991 21  
ताकते हुए 284 57  
शाश्वत 37 7

**अनवरत (वर्षा)**  
अनवरत (वर्षा) 54 24 ⇨

**अनवरत गति**  
अधिराम गति 1049 2

**अनवरतता**  
अधिरामता 1049 1  
क्रमिकता 991 2  
शाश्वतता 37 1

**अनवरत धार**  
प्रधार 1032 8

**अनवरत प्रयत्न**  
अध्ययसाय 489 4

**अनवरत वर्षा**  
अनवरत वर्षा 54 7 ⇨

**अनवरुद्ध**  
अवरोधहीन 1049 13  
प्रवाहित (जल) 21 39

**अनवरोध**  
अवरोधहीनत 1049 23  
अवरोधहीनता 1049 4

**अनयलंबनीय**  
अधिश्वसनीय 341 6

**अनयलंबित**  
निराधार 1019 16

**अनयलंबितता**  
निराधारता 1019 4

**अनयलोकन**  
अनयलोकन 284 2 ⇨

**अनयलोकनीय**  
अदर्शनीय 401 11

**अनयलोकित**  
अनयलोकित 284 49 ⇨

**अनयला**  
अपसरा सूची 782 3

**अनयशिश्ट**  
अनयशिश्ट 954 18 ⇨

**अनयसप्त**  
समाप्त 942 20

**अनयसर**  
अनुपयुक्त अवसर 70 4

**अनयसरयाधिता**  
निष्ठा 826 1

**अनयसरयादी**  
निष्ठाघान 826 9

**अनयसाद**  
शोकहीनता 382 9

**अनयसित**  
असमाप्त 943 11

**अनयस्था**  
अतहीन तर्क 325 5  
अव्ययस्थितता 894 5  
शून्य अवस्था 79 2

**अनयस्थित**  
अस्थिर 1037 22  
सचलित 1037 20

**अनयसिद्धि कार्य**  
अस्येच्छित कर्म 650 8

**अनयीकृतता**  
यथापूर्वता 533 5

**अनयीनता**  
प्राचीनता 63 1

**अनयेश**  
अनासक्त 366 5

**अनयेशक**  
उपेक्षक 185 8

**अनयेशा**  
असत्कार 185 1  
असायधानी 498 1  
उपेक्षा 185 2

**अनयेशित**  
उपेक्षित 185 7

**अनयान**  
भूख हड़ताल 902 12  
व्रत उपवास 748 1

**अनयान व्रत**  
आमरण भूख हड़ताल 902 13

**अनयश्वर**  
अनयश्वर 37 9 ⇨

**अनयश्वर (दे)**  
अपरिवर्तनशील 533 10  
मृत्यु विजेता 250 17

**अनयश्वरता**  
अनयश्वरता 37 3 ⇨

**अनयश्वरता (दे.)**  
अपरिवर्तनशीलता 533 2  
अमृत्यु 250 1

**अनयश्वर शरीर**  
सूक्ष्म शरीर 139 2

**अनयष्ट**  
अनयष्ट 533 16 ⇨

**अनयसकरा [अनयसकरी]**  
पक्का खाना 197 4

**अनयसजा [अनयसजी]**  
अनलंकृत 227 5

**अनयसटा [अनयसटी]**  
हटा [हटी] 32 9

**अनयसाहटिक (अँ)**  
विज्ञान विरुद्ध 307 14

**अनयसिला कपड़ा**  
वस्त्र 579 1

**अनयसुना [अनयसुनी]**  
अभूतपूर्व 312 18  
अश्रुत 293 14

**अनयसुनापन**  
अभूतपूर्वता 312 5

**अनयसुनी करना**  
अवज्ञा करना 348 4

**अनयसुलझा [अनयसुलझी]**  
असमाधानित 335 11

**अनयसुहाती बात**  
अग्रिय वचन 432 2

**अनयसूय [अनयसूया]**  
ईर्ष्याहीन 709 7

**अनयसूयता**  
ईर्ष्याहीनत 709 12

**अनयसूया**  
श्राद्धि स्त्री सूची 789 25  
कृतिका सूची 774 31

**अनयसौधे**  
आदतन 836 14  
विचारहीनत 330 30

**अनयसूईंग (अँ)**  
उध्यकरण 1033 10

**अनयसितत्व**  
अनयसितत्व 247 1 ⇨  
शून्य अवस्था 79 2

**अनयसितत्वमान**  
अवर्तमान 86 7

**अनयस्थ**  
अस्थिहीन 133 22

**अनयस्थिक**  
अस्थिहीन 133 22

**अनयस्थित**  
अस्थिर 1037 22

**अनयस्थिर**  
अस्थिर 1037 22  
उद्दिग्ग 377 13

**अनयस्थिरण**  
अस्थिरण 1037 7

**अनयस्थिरता**  
अस्थिरता 1037 6

**अनयस्थिर होना**  
अस्थिर होना 1037 14

**अनयहंकार**  
दर्पहीनता 859 3

**अनयहंकारी**  
दर्पहीन 859 8

**अनयहंकृति**  
दर्पहीनता 859 3

**अनयहद नाद**  
योग ध्वनि 756 16

**अनयहिसू**  
अकल्याण कामी 711 11

**अनयहुआ [अनयहुई]**  
अघटित 75 14

## अनहोनहारी

### अनहोनहारी

- असभयता 68 4  
**अनहोनी**  
 अघटना 75 2  
 अघटनीय 75 15  
 असभय 68 14  
 असभय घटना 75 7  
 असंभयता 68 4  
 दुर्घटना 168 2  
**अनहोनी को होनी करना**  
 कठिन कार्य करना 487 17  
**अनहोनी घटना**  
 असंभय घटना 75 7  
**अनहोवनि**  
 अनस्तित्व 247 1  
**अनांतरिक**  
 अस्वाभाविक 836 12  
**अनांतरिकता**  
 अस्वाभाविकता 836 6  
**अनांदोलन**  
 निश्चलता 1038 2  
**अनांदोलित**  
 निश्चल 1038 8  
**अनांशिकता**  
 पूर्णांशता 940 5  
**अनाउंसर्मेट (अँ)**  
 घोषणा 441 10  
**अनाउंसर (अँ)**  
 घोषक 441 23  
**अनाकर्षक**  
 अरोचक 401 10  
 असुंदर 156 3  
**अनाकर्षकता**  
 अरोचकता 401 1  
 असुंदरता 156 1  
**अनाकांक्षा**  
 इच्छाहीनता 360 1  
**अनाकांक्षित**  
 अनिच्छित 360 10  
**अनाकांक्षी**  
 अमहत्त्वाकांक्षी 508 10  
**अनाकांक्ष्य**  
 अनिच्छनीय 360 11  
**अनाकार**  
 ईश्वर 764 1  
 निराकार 967 13  
**अनाकारता**  
 निराकारता 967 2  
**अनाकीर्ण**  
 विरल 1005 9  
**अनाकीर्णता**  
 विरलता 1005 2  
**अनाकुल**  
 निरुद्दिग्न 378 9  
**अनाकुलता**  
 निरुद्दिग्नता 378.3  
**अनाक्रम्य**  
 अनाक्रम्य 519.29 ⇨

### अनाक्रम्यता

- अनाक्रम्यता 519 13 ⇨  
**अनाक्रामक**  
 प्रतिरक्षात्मक 908 25  
**अनागत**  
 अजन्मा 247 7  
 अनासन्न 67 11  
 अप्रविष्ट 1094 27  
 भविष्य कालीन 36 22  
**अनागत काल**  
 भविष्य काल 36.14  
**अनागति**  
 अप्रवेश 1094 10  
**अनागम**  
 अप्रवेश 1094 10  
 अप्राप्ति 639 7  
**अनागमन**  
 अप्रवेश 1094.10  
**अनागामी**  
 अमविष्णु 67 9  
**अनागार**  
 खानाबदोश 1090.44  
 सन्यासी 790 11  
**अनाघात ताल**  
 अनाघात ताल 458.29 ⇨  
**अनाचरण**  
 अकार्यान्वयन 505 6  
**अनाचरणीय**  
 निषिद्ध 880 12  
**अनाचार**  
 अत्याचार 835 3  
 घोटाला 865 8  
 दुश्चरित्रता 811 1  
 हेकड़ी 734 10  
**अनाचारिणी**  
 दुश्चरित्रा 811.6  
**अनाचारिता**  
 दुश्चरित्रता 811 1  
**अनाचारी**  
 अत्याचारी 835 13  
 दुश्चरित्र 811 5  
 निर्दय 835 10  
 पापी 812 12  
**अनाच्छादन**  
 अनावरण 822 10  
**अनाच्छादित**  
 अनावृत 822 29  
**अनाज**  
 अनपका भिक्षात्र 642 9  
 अनाज 187 1 ⇨  
 परचून सूची 186 9  
**अनाज: खंड**  
 अनाज: खंड 192 1 ⇨  
**अनाज गोदाम**  
 अनाज गोदाम 670 18 ⇨  
**अनाज: छिलका**  
 अनाज: छिलका 116.8 ⇨

### अनाज इन्फार्

- गाहनी 548 20  
**अनाज ढेर**  
 अन्न ढेर 686 9  
**अनाज दान**  
 अन्न दान 641.10  
**अनाज: पौद**  
 अनाज पौद 113 6 ⇨  
**अनाज बखार**  
 अनाज गोदाम 670 18  
**अनाज: बाल**  
 अनाज बाल 113.8 ⇨  
**अनाज भूति**  
 भोज भूति 643 10  
**अनाज मंडी**  
 अनाज मंडी 663 11 ⇨  
**अनाज: रोजंदार**  
 भोज भूतिक 643 11  
**अनाज: रोजंदारी**  
 भोज भूति 643 10  
**अनाज विक्रेता**  
 अनाज विक्रेता 663 12 ⇨  
**अनाज व्यापारी**  
 अनाज विक्रेता 663 12  
**अनाज सूची**  
 अनाज सूची 187 6 ⇨  
**अनाज्ञाकारिता**  
 अयज्ञा 348 1  
**अनाज्ञाकारी**  
 अवज्ञा कर्ता 348 7  
**अनाज्ञंबर**  
 पाखंडहीनता 822 12  
**अनाड़ी**  
 अनार्य जातीय 732 15  
 अनुभवहीन 304 8  
 अनुभवहीन सरल 817 9  
 अप्रवीण 304 9  
 अयोग्य 304 6  
 असभ्य 734 14  
 नौसिखिया 304 10  
 फूहक 403 5  
 मूर्ख 302 7  
 व्यवहार अकुशल 829.9  
**अनाड़ी चिकित्सक**  
 अनाड़ी चिकित्सक 171.14 ⇨  
**अनाड़ीपन**  
 अनुभवहीनता 304.3  
 अनुभवहीन सरलता 817.3  
 अप्रवीणता 304.4  
 नौसिखियापन 304.5  
 फूहकपन 403.2  
 व्यवहार अकुशलता 829.2  
**अनाड़ी वैद्य**  
 अनाड़ी चिकित्सक 171 14  
**अनालप**  
 छायादार 286.18  
**अनातुर**  
 अनातुर 497.5 ⇨

### अनातुरता

- अनातुरता 497.2 ⇨  
**अनात्म**  
 जड़ 78 23  
 जड़ जगत 78 3  
 व्यक्तित्वहीन 836 8  
**अनात्मज**  
 अनौरस 716 16  
**अनात्मता**  
 घेतनाहीनता 264.2  
 व्यक्तित्वहीनता 836 2  
**अनात्मीय**  
 इतर 945 5  
**अनात्मीयता**  
 परजन भावना 725 4  
**अनात्म्य**  
 अशारीरिक 139 12  
**अनात्म्यंतिक**  
 अनंतिम 995 13  
**अनाथ**  
 अनाथ 719.5 ⇨  
 असहाय 701.8  
 पिताहीन 719 6  
 साधनहीन 558 20  
**अनाथ आश्रम**  
 अनाथाश्रम 601 10  
**अनाथतः**  
 असहायत 701 10  
**अनाथता**  
 अनाथता 719 1 ⇨  
**अनाथता (दे.)**  
 असहायता 701 2  
 परिवारहीनता 726 4  
**अनाथालय**  
 अनाथाश्रम 601 10  
**अनाथाश्रम**  
 अनाथाश्रम 601.10 ⇨  
**अनादत्त**  
 अनादत्त 639.22 ⇨  
**अनादर**  
 अपमान 855 1  
**अनादर करना**  
 अपमानित करना 855.6  
**अनादर कर्म**  
 अपमानन 855.2  
**अनादरणीय**  
 अपमान्य 855 12  
**अनादरित**  
 अपमानित 855.11  
**अनादरशता**  
 आदर्शहीनता 828.4  
**अनादान**  
 अनादान 639.5 ⇨  
 अनादान 639.8 ⇨  
**अनादायाद**  
 अनादेय 639.20  
**अनाधि**  
 असीम 1001.34

आरंभहीन 37.8  
 अश्वर 784.1  
 वेष्णु 768.1  
 आश्वर 37.7  
 अभ्य 733.13  
 आदि अनंत काल  
 आदि अनंत काल 36.2 ⇨  
 आदित  
 आधुनिक 295.5  
 आदिता  
 प्रसीमता 1001.3  
 आरंभहीनता 37.2  
 आदिनिधन  
 वेष्णु 768.1  
 आदिम  
 आराधीनता 64.9  
 आदिमता  
 आराधीनता 64.2  
 अभ्यीकरण 733.1  
 आदुत  
 प्रसक्त 185.6  
 आदेय  
 आदेय 639.20 ⇨  
 आद्यंत  
 आकार 967.13  
 वेष्णु 768.1  
 आद्यंतता  
 आकारता 967.2  
 आनंद  
 आनंदहीनता 383.2  
 आनंदित  
 आनंदहीन 383.10  
 आनुपूर्व्य  
 आहीनता 992.1  
 आनुवंशिक  
 आनुवंशिक 727.40 ⇨  
 आनुवंशिकता  
 आनुवंशिकता 727.18 ⇨  
 आपद  
 सुरक्षित 908.27  
 आपवता  
 सुरक्षा 908.4  
 आपदा  
 सुरक्षा 908.4  
 आपन्न  
 प्रव्यतीत 74.4  
 आप शानाप  
 प्रत्यधिक 944.7  
 प्रसंख्यतः 944.13  
 प्रसंगत 439.5  
 एकवासपूर्ण 428.25  
 आप शानाप खर्च करना  
 प्रपच्यय करना 644.15  
 आप  
 प्रविश्वसनीय 341.6  
 प्रसंगत 439.5  
 सुख 302.7

अनापत्ता  
 असंगतता 439.1  
 अनाबद्ध  
 उन्मुक्त 1015.9  
 अनाबद्धता  
 उन्मुक्तता 1015.4  
 अनाबद्धन  
 उन्मोचन 1015.1  
 अनाभूषित  
 अनलकृत 227.5  
 अनाभूषितता  
 अनलकृतता 227.2  
 अनाम  
 ईश्वर 764.1  
 नामहीन 315.14  
 अनामय  
 विष्णु 768.1  
 स्वस्थ 161.5  
 अनामयता  
 स्वस्थता 161.3  
 अनामा  
 मल मास 43.19  
 अनामिका  
 अनामिका 150.18 ⇨  
 अनामित  
 अपरिभाषित 317.18  
 अनामोद  
 मनोरजनहीनता 469.3  
 अनाम्य  
 अपरिभाष्य 317.20  
 अनाम्यता  
 अपरिभाष्यता 317.4  
 अनापक  
 अव्यवस्थित 894.9  
 नेताहीन 346.6  
 अनायस  
 स्वाधीन 900.7  
 अनायास  
 अकस्मात् 69.13  
 अप्रयत्नतः 490.15  
 राह चलते 1098.27  
 अनायुक्त अधिकारी  
 अनायुक्त अधिकारी 652.8 ⇨  
 अनायुषा  
 असुर स्त्री सूची 783.9  
 अनारंजित  
 अरंजित 291.15  
 अनारंभ  
 आरंभहीनता 37.2  
 अनार  
 अनार 190.5 ⇨  
 आतिशबाजी सूची 56.6  
 खाद्य फल सूची 190.2  
 छप्परः रस्ती 570.11  
 अनारदाना  
 अनारदाना 277.4 ⇨  
 अनारीग्यकर  
 स्वास्थ्यहर 162.6

अनार्जव  
 बेईमान 816.5  
 अनार्तव  
 अकालजात 62.18  
 ऋतु कालेतर 51.17  
 अनार्द्र  
 शुष्क 89.9  
 अनार्द्रण  
 शुष्कन 89.2  
 अनार्द्रता  
 शुष्कता 89.1  
 अनार्द्रीकरण  
 शुष्कन 89.2  
 अनार्य  
 अनार्य जातीय 732.15  
 असभ्य 734.14  
 अनार्यक  
 अगुरु 274.11  
 अनार्य जाति  
 अनार्य जाति 732.4 ⇨  
 अनार्य जातियौ  
 अश्वेत जाति 730.8  
 अनार्य जातीय  
 अनार्य जातीय 732.15 ⇨  
 अनार्यता  
 असभ्यता 734.1  
 अनार्ष  
 अवेदीय 740.63  
 अनार्लंबी  
 शिव वीणा 767.17  
 अनार्लाप  
 अवाचाल 429.26  
 मीन 429.22  
 अनार्लेपित  
 अनार्लेपित 292.14 ⇨  
 अनार्लोकित  
 अंधकारपूर्ण 286.14  
 अनार्लोकित  
 अविचारित 330.24  
 अनार्वरण  
 अनार्वरण 822.10 ⇨  
 अपरिधानन 590.11  
 अपिधानन 675.2  
 उद्घाटन 693.2  
 प्रकटता 822.8  
 रहस्योद्घाटन 822.6  
 अनार्वरण करना  
 उद्घाटन करना 693.6  
 अनार्वरण कर्ता  
 उद्घाटक 693.12  
 अनार्वर्तन  
 अनार्वृत्ति 72.1  
 अनार्वर्तित  
 आवृत्तिहीन 72.3  
 अनार्वर्तितता  
 अनार्वृत्ति 72.1  
 अनार्वर्ती  
 आवृत्तिहीन 72.3

अनार्वलंब  
 अवलंबनहीन 649.10  
 अवलंबनहीनता 649.2  
 अनार्वलंबी  
 शिव वीणा 767.17  
 अनार्वरयक  
 अनार्वरयक 525.9 ⇨  
 अनिच्छनीय 360.11  
 अनुपयोगी 525.8  
 महत्त्वहीन 853.8  
 अनार्वरयकता  
 अनार्वरयकता 525.3 ⇨  
 अनार्वास  
 बहिर्वास 616.4  
 अनार्वासित  
 अनार्वासित 617.13 ⇨  
 अनार्वासितता  
 अनार्वासितता 617.3 ⇨  
 अनार्वासित होना  
 आवासित न होना 617.9  
 अनार्वासिता  
 अनार्वासिता 883.4 ⇨  
 अनार्वासी  
 अनार्वासी 883.8 ⇨  
 बहिर्वासी 616.15  
 अनार्वाहन  
 अनिमित्रण 1056.4  
 अनार्वाहित  
 अनार्वाहित 1055.12 ⇨  
 अनिमित्रित 1056.8  
 अनार्विष्ट  
 आवेशहीन 372.12  
 अनार्विष्टता  
 आवेशहीनता 372.3  
 अनार्वृत  
 अनार्वृत 822.29 ⇨  
 उद्घाटित 693.11  
 छिलका उतरा 542.19  
 अनार्वृत करना  
 अनार्वृत करना 822.18 ⇨  
 अनार्वृत  
 आवृत्तिहीन 72.3  
 अनार्वृत्ति  
 अनार्वृत्ति 72.1 ⇨  
 अनार्वृष्टि  
 वर्षाहीनता 54.2  
 अनार्शंका  
 अनार्शंका 378.1 ⇨  
 अनार्शंकित  
 अनार्शंकित 378.7 ⇨  
 अनार्श  
 आशाहीन 376.5  
 अनार्शकाथन  
 ब्रह्मचर्य 234.3  
 अनार्शा  
 आशाहीनता 376.1  
 अनार्शी  
 अनश्वर 37.9

## अनासक्त

### अनासक्त

अनासक्त 366.5 ⇨

### अनासक्त होना

विरक्त होना 366.4

### अनासक्ति

अनासक्ति 366.1 ⇨

कर्मफल अनासक्ति 504.12

कर्मफल त्याग 504.13

### अनासन्न

अनासन्न 67.11 ⇨

### अनासिर

पंचभूत 78.8

### अनास्था

अपमान 855.1

श्रद्धाहीनता 341.2

सदेह 341.3

### अनाहत

अनाहत 168.8 ⇨

### अनाहत चक्र

षड्भ्रम सूची 757.8

### अनाहत नाद

योग ध्वनि 756.16

### अनाहार

अखाद्य आहार 197.2

अभोजन 181.5

व्रत उपवास 748.1

### अनाहार व्रत

निराहार उपवास 748.3

व्रत उपवास 748.1

### अनाहारी

उपवासक 748.19

### अनाहार्य

अनाहार्य 197.23 ⇨

अशीच (आहार) 198.14

### अनाहार्यता

आहार अशीच 198.7

### अनाहत

अनायाहित 1055.12

अनिमत्रित 1056.8

### अनाहत आंगतुक

घुसपैठिया 1094.16

### अनिध

अति सुदर 157.8

सुडील 155.4

### अनिद्रिय

हृद्रियहीन 288.13

### अनिकट

अनासन्न 67.11

### अनिकटता

दूरता 32.1

### अनिकट भविष्य में

अनिकट भविष्य में 36.36 ⇨

### अनिकेत

संन्यासी 790.11

### अनिग्रह

असंयम 809.3

### अनिग्रही

असयमी 809.9

### अनिच्छनीय

अनिच्छनीय 360.11 ⇨

### अनिच्छा

इच्छाहीनता 380.1

उत्साहहीनता 492.1

घृणा 370.2

### अनिच्छापूर्वक

अनुद्यत 492.20

### अनिच्छित

अनिच्छित 360.10 ⇨

नापसद 401.9

### अनिच्छुक

अनिच्छुक 360.12 ⇨

### अनिजक

इतर 945.5

### अनितांत

अंतिम 995.13

### अनित्य

अनियमित 71.11

अशाश्वत 38.6

आवागमन ग्रस्त 246.12

धैर्यहीन 395.27

नश्वर 38.7

भजनशील 539.14

### अनित्यता

अनियमितता 71.3

अशाश्वतता 38.1

नश्वरता 38.2

### अनित्य भाव

अत्यायुता 229.5

### अनिदान

कारणहीनता 507.8

### अनिद्र

निद्राहीन 265.9

### अनिद्रा

जाग्रत अवस्था 265.1

निद्राहीनता 265.4

### अनिद्रित

जाग्रत 265.7

### अनिपुण

अप्रवीण 304.9

### अनिपुणता

अप्रवीणता 304.4

### अनिमंत्रण

अनिमंत्रण 1056.4 ⇨

### अनिमंत्रित

अनिमंत्रित 1056.8 ⇨

### अनिमंत्रितता

अनिमंत्रितता 1056.11 ⇨

### अनिमित्त

अशुभ शकुन 262.3

आकस्मिक 69.10

कारणहीनता 507.8

### अनिमित्तक

कारणहीनता 507.8

### अनिमित्तकता

अनावश्यकता 525.3

### अनिमित्ततः

कारणहीनता 507.8

प्रयोजनहीनता 509.5

### अनिमित्त

अनादि अनंत काल 36.2

ताकते हुए 284.57

देयता 772.1

### अनिमिषीय

दैनिक 772.40

### अनिमीलित

विस्फारित 119.12

### अनिमीलिततः

विस्फारिततः 119.15

### अनिमेष

ताकते हुए 284.57

### अनिमेष दृष्टि

ताक 284.14

### अनिमेषिततः

विस्फारिततः 119.15

### अनियंत्रण

अनिषेध 880.2

चेतनाहीनता 264.2

नियंत्रणहीनता 900.2

निरकुश तत्र 881.22

मद झूम 211.2

### अनियंत्रित

अनिषिद्ध 880.13

अव्यवस्थित 894.9

नियंत्रणहीन 900.8

निरकुश 881.40

### अनियंत्रिततः

स्वेच्छाधारित 809.11

### अनियंत्रितता

नियंत्रणहीनता 900.2

### अनियत

अनियत 68.18 ⇨

अनियमित 71.11

आकस्मिक 69.10

कर्तृत्व अधीन 260.28

मात्रा में अनियत 946.18

### अनियत कालिक

अनियमित 71.11

अवधिहीन 39.10

### अनियतता

अपूर्ण संभावना 68.6

### अनियत लागत

अनियत लागत 644.10 ⇨

### अनियम

अव्यवस्थितता 894.5

विष्णु 768.1

### अनियम शासन

अनियम शासन 894.2 ⇨

### अनियमित

अधिकारहीन 898.3

अनियमित 71.11 ⇨

नियंत्रणहीन 900.8

नियम प्रतिकूल 879.19

### अनियमित आवर्तिता

अनियमितता 71.3

### अनियमितता

अनियमितता 71.3 ⇨

### अनियमित होना

अनियमित होना 71.7 ⇨

### अनियुक्त

अधिकारहीन 898.3

### अनियोग

अनुपभोग 525.1

### अनियोजित

क्रमहीन 992.5

योजनाहीन 520.21

### अनियोजिततः

क्रमहीनता 992.7

### अनिरंतर

अशाश्वत 38.6

विरामयुक्त 1048.5

### अनिरंतरता

अशाश्वतता 38.1

### अनिरत

प्रवृत्तिहीन 503.10

### अनिराकरण

अनियारण 919.3

### अनिराकृत

अनियारित 919.8

### अनिरुद्ध

अनिरुद्ध 771.34 ⇨

अनिषिद्ध 880.13

कामदेव 773.12

चतुर्व्यूह विष्णु अश सूची 768.15

नियंत्रणहीन 900.8

विष्णु 768.1

शिव 767.1

### अनिरुद्धः पत्नी

उषा 783.22

### अनिरुद्धः पिता

प्रद्युम्न 771.73

### अनिरूपित

अनगद्य 545.28

### अनिर्णय

जयपराजयहीनता 912.8

ज्ञा 912.9

दुबिधा 501.1

मार्ग भ्रम 1099.1

### अनिर्णयप्रस्तता

दुबिधाप्रस्तता 501.2

### अनिर्णीत

अस्पष्ट 823.11

जयपराजयहीन 912.21

दुबिधाप्रस्त 501.8

दृक्मतहीन 344.12

विद्याराधीन 330.21

### अनिर्णीततः

अस्पष्टता 823.15

### अनिर्णीतता

अस्पष्टता 823.1

दिष्ट  
स्पष्ट 823 11  
दिष्टतः  
स्पष्टत 823 15  
दिष्टता  
स्पष्टता 823 1  
प्रारित  
नेर्धारित 328 15 ⇨  
स्पष्ट 823 11  
प्रारितता  
स्पष्टता 823 1  
ईध  
नेषिद्ध 880 13  
यत्रणहीन 900 8  
मार्ण  
रचना 528.1  
मार्ता  
रचेता 528 7  
मित  
रचित 528 6  
ईचनीय  
रिभाष्य 317 20  
रर्णीय 449 26  
ईचनीयता  
रिभाष्यता 317 4  
रर्णीयता 449 2  
र्राच्य  
रर्णीय 449 26  
र्राच्यता  
रर्णीयता 449 2  
र्राह  
र्राग्रस्तता 627 2  
र्राहीनता 325 8  
र्राण अनिर्वाह 703 4  
र्राध्य  
र्राध्य 519 22  
र्रा  
र्रा वसु सूची 777 8  
र्रा  
र्रा 768 1  
र्रा कुमार  
र्रा 771 76  
र्राण 781 19  
र्रा सखा  
र्रा 106 1  
र्रात्मज  
र्रा 771.76  
र्राण 781 19  
र्रात्मय  
र्रा रोग 163.22  
र्राणी  
र्रा 123 10  
र्राण  
र्राण 919.3 ⇨  
र्राणीय  
र्राण्यक 524.23  
र्राण्य 919.9

अनिवारणीयता  
अनिवार्यता 919.4  
अनिवारित  
अनिवारित 919.8 ⇨  
अनिवार्य  
अत्यावश्यक 524 23  
अनिवार्य 919.9 ⇨  
अवश्यकभावी 68 15  
आवश्यकता 524 20  
नियत 68 16  
वैवश्यकतापूर्ण 339 36  
अनिवार्य कर्म  
नित्य कर्म 504 8  
अनिवार्यतः  
प्रारब्धाधीनतः 260 35  
अनिवार्यता  
अनिवार्यता 919 4 ⇨  
अवश्यकभावना 68 7  
आवश्यकता 524 7  
वैवश्यकता 339 8  
अनिवासिता  
अनिवासिता 617.2 ⇨  
अनिवासी  
अनिवासी 617 12 ⇨  
अनिवृत्तात्मा  
शिव 767 1  
अनिवृत्ति  
अविरक्ति 365 .  
अनिशात  
कुठित 270 24  
अनिश्चय  
दुबिधा 501 1  
मार्ग भ्रम 1099 1  
अनिश्चयग्रस्तता  
दुबिधाग्रस्तता 501 2  
अनिश्चयात्मक  
दुबिधाजनक 501 9  
सदिग्ध 341 9  
अनिश्चल  
जंगम 1037.18  
अनिश्चित निद्रा  
श्वान निद्रा 266.4  
अनिश्चित  
अनियत 68 18  
अनिर्धारित 328.15  
अस्पष्ट 823 11  
दुबिधाग्रस्त 501.8  
दुबिधाजनक 501 9  
दृढमनहीन 344 12  
परिवर्तनशील 532.17  
मात्रा मे अनियत 946 18  
वियादित 324.23  
अनिश्चित अतीत में  
सुदूर भूत मे 36 32  
अनिश्चितता  
अल्प सभावना 68.5  
अस्पष्टता 823 1  
दुबिधाग्रस्तता 501.2

अनिश्चित मान राशि  
अज्ञात राशि 952 8  
अनिश्चित संख्या  
अनिश्चित संख्या 949.4 ⇨  
अनिश्चित  
अनिश्चित 880.13 ⇨  
यज्ञोपयुक्त 753 33  
अनिश्चिततः  
अनिश्चित 880 15 ⇨  
अनिश्चितता  
अनिश्चित 880 2  
अनिश्चय  
अनिश्चय 880 2 ⇨  
अनिष्ट  
अकल्याण 711 1  
अनिश्चित 360.10  
अपकारक 831 15  
अहित 712 2  
भौतिक सकट 909 3  
सकट 909 1  
सकटप्रद 909 20  
अनिष्टकर  
अकल्याणकारी 711 9  
मारक 251 24  
सकटप्रद 909 20  
अनिष्टकारी  
अपकार कर्ता 831 14  
मारक 251 24  
अनिष्ट ग्रह योग  
अनिष्ट योग 261 30  
अनिष्ट चिंतन  
अकल्याण कामना 711 3  
अनिष्ट निवारण  
अकल्याण निवारण 710 9  
अनिष्ट योग  
अनिष्ट योग 261.30 ⇨  
अनिष्ट शंका  
भारंका 377.1  
अनिष्ट संकट  
भौतिक संकट 909 3  
अनिष्ट संकट आना  
भौतिक सकट आना 909 14  
अनिष्ट संभावना  
जोखिम 519.5  
अनिष्टादि  
भौतिक सकट 909 3  
अनिष्ट  
निष्ठाहीन 827.16  
परिवर्तनशील 532.17  
विचलनशील 501 12  
अनिष्ठा  
निष्ठाहीनता 827 1  
विवाह अनिष्ठा 806.1  
अनिष्ठित  
वैयंहीन 395.27  
अनिष्ठात  
अविद्वान 320.4

अनिष्ठातता  
अविद्वता 320.1  
अनिष्ठाति  
कार्य असमाप्ति 523 1  
अनिष्ठात  
अकृत 505.21  
असमाप्त (कार्य) 523 6  
अनिष्ठातित  
असमाप्त (कार्य) 523.6  
अनिष्ठाद्य  
असाध्य 519 22  
अनिष्ठाद्यता  
असाध्यता 519.6  
अनिष्ठाद्यता  
अधारगम्यता 1097 6  
अनी  
कणी 938 3  
गॉस 938 12  
जूताग्र 588 34  
घार 270 7  
नोक 270 8  
नौकाग्र 1073 23  
सकट काल 909 7  
समूह 690.1  
सेना 932 1  
अनीक  
आकार रूप 967.5  
किनारा 1000 10  
पक्ति 691 4  
प्रयाण 907 25  
युद्ध 905 4  
समूह 690.1  
सेना 932 1  
सेना पक्ति 933 6  
अनीकिनी  
कमलिनी 948  
कोर 932 22  
सेना 932 1  
अनीकीय  
सैन्य 932.34  
अनीक  
अशारीरी 139 14  
अनीति  
अत्याचार 835 3  
अनैतिकता 816.1  
दुर्व्यवहार 831 1  
दुश्चरित्रता 811 1  
न्यायहीनता 874.3  
अनीतिज्ञता  
व्यवहार अकुशलता 829.2  
अनीतिपूर्ण  
अनैतिक 816 4  
अनीप्सा  
इच्छाहीनता 360 1  
अनीप्सित  
अनिश्चित 360.10  
अनीय  
अत्यल्प 942.16

## अनीर्ष्यतः

### अनीर्ष्यतः

ईर्ष्याहीनत 709 12  
**अनीश**  
 अनाथ 719 5  
 जीव 121 4  
 माया /62 9  
 स्वामीहीन 621 25  
**अनीश्वर**  
 स्वामीहीन 621 25  
**अनीश्वरता**  
 नास्तिकतावाद 760 14  
**अनीश्वरवाद**  
 नास्तिकतावाद 760 14  
**अनीश्वरवादी**  
 धर्महीन /35 15  
**अनीह**  
 अनासक्त 366 5  
 इच्छाहीन 360 9  
**अनीहा**  
 अनासक्ति 366 1  
 इच्छाहीनता 360 1  
**अनु-**  
 अनुचरत 696 27  
 दिशा मे 29 35  
 पश्च 995 16  
 पश्चत 995 18  
 पुन 73 5  
 प्रत्येक 940 9  
**अनु**  
 शयन 1027 1  
**अनु-**  
 संगत 438 6  
**अनुकप**  
 प्रतिध्वनि 294 4  
**अनुकंपन**  
 प्रतिध्वनन 294 5  
**अनुकंपनीय**  
 दयनीय 834 16  
**अनुकंपनीयता**  
 दयनीयता 834 7  
**अनुकंपा**  
 दया 834 1  
 सहानुभूति 393 3  
**अनुकंपी**  
 दयालु 834 12  
 सहानुभूति कर्ता 393 19  
**अनुकथन**  
 अन्देश 435 14  
 वचन 449 1  
 वृत्तांत 449 14  
**अनुकथा**  
 उपरोहारा 466 18  
**अनुकरण**  
 अनुकरण 505 8 ⇌  
 अभिनय 464 2  
 भीड़ानुगमन 345 4  
**अनुकरण करना**  
 अनुकरण करना 505 16 ⇌

**अनुकरण कर्ता**  
 अनुकरण कर्ता 505 31 ⇌  
**अनुकरणज शब्द**  
 उद्गमानुसार शब्द सूची 423 4  
**अनुकरणीय**  
 अनुकरणीय 505 29 ⇌  
**अनुकरणीय आदर्श**  
 अनुकरणीय आदर्श 829 5 ⇌  
**अनुकर्ता**  
 अनुकरण कर्ता 505 31  
**अनुकर्म**  
 आज्ञा पालन 347 6  
**अनुकर्ष**  
 अक्ष दंड 1077 12  
**अनुकर्षण**  
 अनुकर्षण 1051 8 ⇌  
**अनुकर्षण करना**  
 अनुकर्षण करना 1051 23 ⇌  
**अनुकल्प**  
 विकल्प विधि 516 2  
**अनुकाक्षा**  
 इच्छा 359 1  
**अनुकाक्षित**  
 इच्छित 359 19  
**अनुकाक्षी**  
 इच्छुक 359 21  
**अनुकाम**  
 इच्छुक 359 21  
**अनुकामी**  
 रवेच्छित कर्मी 650 22  
**अनुकारी**  
 अनुकरण कर्ता 505 31  
 आज्ञा पालक 347 12  
**अनुकार्य**  
 अनुकरणीय 505 29  
 आज्ञा पालन 347 6  
**अनुकीर्तन**  
 प्रशंसा गायन 841 10  
**अनुकूल**  
 अनुकूल 885 37 ⇌  
 अनुसार 514 26  
 अभिमुख 1023 9  
 तर्कपूर्ण 325 21  
 प्रशंसा 381 7  
 संगत 438 6  
 सामजस्यपूर्ण 702 6  
**अनुकूल आकार**  
 सही आकार 961 2  
**अनुकूल ग्रह**  
 शुभ ग्रह 261 15  
**अनुकूलता**  
 अनुकूलता 885 8 ⇌  
 अवसरानुकूलता 70 2  
 दयालुता 834 4  
 संगतता 438 1  
 सामंजस्य 702 1

**अनुकूल दिशायोग**  
 अनुकूल दिशायोग 262.13 ⇌  
**अनुकूल देव**  
 सौभाग्य 260 17  
**अनुकूलन**  
 आरंभिक अभ्यास 303 6  
 सामंजस्य स्थापना 702 2  
**अनुकूल परिस्थिति**  
 सुसंयोग 69 2  
**अनुकूल प्रतिफल घितन**  
 विमर्श 330 11  
**अनुकूल होना**  
 अनुकूल होना 885.23 ⇌  
**अनुकूलित**  
 नियंत्रित 899 24  
**अनुकृत**  
 अनुकृत 505.30 ⇌  
**अनुकृति**  
 अनुकृति 397 27 ⇌  
**अनुकृति (दे.)**  
 अनुकरण 505 8  
 प्रतिरूप 967 9  
**अनुकेंद्र गमन**  
 केन्द्रागिसरण 971 12  
**अनुकेंद्र गामी**  
 केन्द्रागिसारी 971 26  
**अनुकेंद्र बल**  
 अभिकेंद्र बल 1050 2  
**अनुकोण काट**  
 आड़ी काट 543 3  
**अनुक्त**  
 अकथित 429 20  
**अनुक्ति**  
 अकथन 429 2  
**अनुककथ**  
 दत्तादेश 970.14  
**अनुक्रम**  
 आनुवशिकता 727 17  
 आरोह क्रम 991 3  
 इंडेक्स 993 8  
 क्रम 991 1  
 परिपाटी 514 9  
**अनुक्रमण**  
 अनुक्रम तर्कण 325 11  
 क्रमबद्धन 991.16  
**अनुक्रमणिका**  
 इंडेक्स 993 8  
 सूची 993.1  
**अनुक्रमणी**  
 इंडेक्स 993 8  
**अनुक्रमता:**  
 क्रमशः 991.28  
**अनुक्रम तर्कण**  
 अनुक्रम तर्कण 325.11 ⇌  
**अनुक्रम से**  
 आरोहत 991 29  
**अनुक्रम स्थापक**  
 क्रमबद्ध कर्ता 991.27

**अनुक्रमहीन**  
 क्रमहीन 992.5  
**अनुक्रमहीनतः**  
 क्रमहीनत 992 7  
**अनुक्रमहीनता**  
 क्रमहीनता 992 1  
**अनुक्रमगत**  
 आरोह क्रमिक 991.22  
**अनुक्रमिक**  
 आरोह क्रमिक 991 22  
 क्रमिक 991.21  
**अनुक्रमिकता**  
 क्रमिकता 991 2  
**अनुक्रमित**  
 क्रमिक 991 21  
**अनुक्रमित करना**  
 क्रमबद्ध करना 991 19  
**अनुक्रमित होना**  
 क्रमबद्ध होना 991 18  
**अनुक्रमेण**  
 क्रमशः 991 28  
**अनुक्रांत**  
 आरोह क्रमिक 991 22  
**अनुक्रिया**  
 अनुकरण 505 8  
**अनुक्षण**  
 प्रति क्षण 1049 19  
**अनुक्षितिज**  
 अनुक्षितिज 1020 12 ⇌  
**अनुक्षितिजता**  
 अनुक्षितिजता 1020.5 ⇌  
**अनुक्षितिज रेखा**  
 क्षितिज रेखा 968 21  
**अनुक्षेपक**  
 प्रक्षिप्त पाठ 412 35  
**अनुगतय्य गमन**  
 मार्गानुगमन 1098 6  
**अनुगता**  
 अनुगामी 1096 10  
**अनुगण**  
 अनुगण 867 7 ⇌  
**अनुगत**  
 अनुगामी 1096 10  
 दायगत 623 27  
**अनुगततः**  
 पीछे पीछे 1096 15  
**अनुगति**  
 अनुगमन 1096.2  
**अनुगम**  
 अर्थ ग्रहण 427 2  
**अनुगमन**  
 अनुकरण 505.8  
 अनुगमन 345.2 ⇌  
 अनुगमन 1096.2 ⇌  
 अनुचर्या 696.15  
 सती: चितारोहण 249.16  
**अनुगमन करना**  
 पीछे चलना 1096.6



<b>अनुगामिता</b>	<b>अनुचक्र</b>	<b>अनुच्चारित</b>	परघात्तापपूर्ण 380 12
अनुगामिता 345.1 ⇨	अनुचक्र 973.5 ⇨	अनभिव्यक्त 429.19	प्रायश्चित्तपूर्ण 813 12
<b>अनुगामी</b>	<b>अनुचक्रिल</b>	<b>अनुच्चारण</b>	मनोव्यथित 391 26
अधीनस्थ कर्मचारी 652.33	उच्यक 973 11	अकथन 429 2	<b>अनुतपता</b>
अनुगामी 345.7 ⇨	<b>अनुचक्रिल चक्र</b>	अनुच्चारण 411.2 ⇨	तपता 104 3
अनुगामी 1096.10 ⇨	अनुचक्र 973.5	<b>अनुच्चारणीय</b>	<b>अनुतरंग</b>
मार्गानुगामी 1098.23	<b>अनुचक्रिलता</b>	अनुच्चार्य 411 20	अनुतरंग 867 8 ⇨
<b>अनुगामीयुक्त</b>	अनुचक्रिलता 973 4 ⇨	<b>अनुच्चारः सार्य</b>	अनुयात 867 9
अनुगामीयुक्त 346.7 ⇨	<b>अनुचक्रिल वृत्त</b>	अनुच्चार सार्य 411.21 ⇨	<b>अनुताप</b>
<b>अनुगामीहीन</b>	अनुचक्र 973 5	<b>अनुच्चारित</b>	खेद 380 1
अनुगामीहीन 346.8 ⇨	<b>अनुचर</b>	अनभिव्यक्त 429 19	परघात्ताप 380 4
<b>अनुगामी होना</b>	अनुगामी 1096 10	अनुच्चारित 411.18 ⇨	<b>अनुतापन</b>
पीठे चलना 1096.6	अनुगामी 345.7	<b>अनुच्चार्य</b>	वातानुतापन 104 9
मतानुगामी होना 345.5	अनुचर 696.16 ⇨	अनुच्चार सार्य 411.21	<b>अनुतापित्र (प्र)</b>
<b>अनुगुंजन</b>	सेवक 651 25	अनुच्चार्य 411 20 ⇨	वातानुतापित्र 104 10
प्रतिध्वनन 294 5	<b>अनुचर गण</b>	<b>अनुच्छिष्ट</b>	<b>अनुतोष</b>
<b>अनुगुंजित</b>	कर्मचारी समूह 652 28	अभुक्त 364 9	अनुतोष 640.9 ⇨
प्रतिध्वनित 294.23	दलबल 691 2	<b>अनुच्छेद</b>	<b>अनुत्कंठित</b>
<b>अनुगुंजित होना</b>	<b>अनुधरण</b>	अध्याय 447 2	अनातुर 497 5
प्रतिध्वनि होना 294 16	अनुगमन 1096.2	नियम. उपधारा 879.3	<b>अनुत्क</b>
<b>अनुगुण</b>	अनुचर्या 696 15	पैराग्राफ 424 8	अनातुर 497 5
सदृश्य 309 20	<b>अनुधरण करना</b>	<b>अनुज</b>	<b>अनुत्क्रमण</b>
<b>अनुगुंज</b>	अनुचर होना 696.22	छोटा भाई 723 12	सीमा सम्मान 1001 28
प्रतिध्वनि 294.4	<b>अनुधरतः</b>	<b>अनुज [अनुजा]</b>	<b>अनुत्क्रामित</b>
<b>अनुगृहीत</b>	अनुधरतः 696 27 ⇨	अनुज [अनुजा] 723.25 ⇨	अनतिक्रामित 1001 43
कृतज्ञ 833.8	<b>अनुधरता</b>	<b>अनुजता</b>	<b>अनुत्क्रामक</b>
<b>अनुगृहीत करना</b>	सेवा 651 1	अनुजता 723.11 ⇨	मर्यादा पालक 808 15
शुभागमन करना 1093 7	<b>अनुधर होना</b>	<b>अनुजन्मा [अनुजन्मी]</b>	<b>अनुत्तर</b>
<b>अनुग्र</b>	अनुधर होना 696.22 ⇨	अनुज [अनुजा] 723 25	अनुत्तर 335.1 ⇨
अप्रबल 488.14	<b>अनुधरी</b>	<b>अनुजल</b>	दक्षिणी 29 31
शात 372.9	सेविका 651 26	अनुत्तरग 867 8	निरुत्तर 335 10
सयमी 808 17	<b>अनुधर्या</b>	<b>अनुजा</b>	<b>अनुत्तरता</b>
<b>अनुप्रता</b>	अनुधर्या 696 15 ⇨	छोटी बहन 723 14	अनुत्तर 335 1
अप्रबलता 488 3	<b>अनुधितन</b>	<b>अनुजात</b>	<b>अनुत्तरदायी</b>
प्रशमता 372 2	ध्यानन 331.2	छोटा भाई 723 12	अनुत्तरदायी 896 7 ⇨
संयम 808.8	सिंहावलोकन 330 10	<b>अनुजात [अनुजाता]</b>	<b>अनुत्तरित</b>
<b>अनुग्रह</b>	स्मृति लाभ 356 10	अनुज [अनुजा] 723 25	अनुत्तरित 335 9 ⇨
क्षमादान 872.2	<b>अनुधितित</b>	<b>अनुजीवी</b>	<b>अनुत्तरित रहना</b>
दया 834.1	विचारित 330.19	परायलबी 648 12	अनुत्तरित रहना 335.6 ⇨
दान 641.1	सिंहावलोकित 330 26	<b>अनुज्ज्वल</b>	<b>अनुत्तान</b>
पृष्ठ रक्षक सेना 933.4	<b>अनुधित</b>	धुंधला [धुंधली] 286 17	पट 486 25
<b>अनुग्रह पात्र</b>	अनिच्छनीय 360 11	<b>अनुज्ञप्ति</b>	<b>अनुत्तीर्ण</b>
दयापात्र 834.17	अवसर प्रतिकूल 70 15	अनुमति 337 5	अनुत्तीर्ण 322.40 ⇨
स्नेहपात्र 368.11	अवैध 878.27	<b>अनुज्ञा</b>	<b>अनुत्तेजना</b>
<b>अनुग्राही</b>	असंगत 439.5	अनुमति 337 5	निरुद्दिग्गता 378 3
दयालु 834.12	निषिद्ध 880.12	<b>अनुज्ञात</b>	प्रशमता 372 2
<b>अनुघटी</b>	बुरा [बुरी] 314 10	अनुमति दत्त 337.22	<b>अनुत्तेजित</b>
अनुघटी 1033.21 ⇨	संसद अयोग्य 889.25	आज्ञापित 347 14	निरुद्दिग्गन 378 9
<b>अनुघटी घूर्णन</b>	<b>अनुधितता</b>	<b>अनुज्ञाता</b>	<b>अनुत्तेजितता</b>
अनुघटी परिक्रमा 1033.5	असंगतता 439 1	अनुमति प्रदाता 337 24	निरुद्दिग्गता 378.3
<b>अनुघटी चक्रण</b>	<b>अनुधित भाव घर्जन</b>	<b>अनुज्ञापक</b>	<b>अनुत्पत्ति</b>
अनुघटी परिक्रमा 1033.5	भावामास 358 9	अनुमति प्रदाता 337 24	अजन्म 247 2
<b>अनुघटी चक्रित</b>	<b>अनुधित्व</b>	<b>अनुज्ञापित</b>	<b>अनुत्पन्न</b>
अनुघटी 1033.21	अनुधित्व 867.6 ⇨	अनुमति प्राप्त 337 23	अजन्मा 247 7
<b>अनुघटी परिक्रमा</b>	<b>अनुध्व</b>	<b>अनुत्तः</b>	<b>अनुत्पादक</b>
अनुघटी परिक्रमा 1033.5 ⇨	अल्पोच्च 982.9	पीठे पीठे 1096 15	अनुत्तर (भूमि) 552 17
तीर्थ परिक्रमा 1089.4	<b>अनुध्वता</b>	<b>अनुत्पत्</b>	रथनाहीन 528 5
	अल्पोच्चता 982.2	तप्त 104.22	बंध्य 238.15

## अनुत्पादकता

**अनुत्पादकता**  
रचनाहीनता 528 2

**अनुत्पादन**  
अजनन 240 6  
अरचना 528 1

**अनुत्पादनशील**  
रचनाहीन 528 5

**अनुत्साह**  
अप्रयत्न 490 1  
उत्साहहीनता 492 1

**अनुत्साही**  
उत्साहहीन 492 13

**अनुत्सुक**  
अनातुर 497 5  
जिज्ञासाहीन 306 19

**अनुदक**  
जलहीन 89 11

**अनुदग्र**  
अल्पोच्च 982 9

**अनुदस**  
अनुमति प्राप्त 337 23  
आदान मुक्त 639 23

**अनुदर**  
छरहरा 154 30

**अनुदरा**  
पतली कमर वाली 158 30

**अनुदात्ता**  
अधमता 840 1

**अनुदान**  
अनुतोष 640 9  
अनुदान 641 6 ⇨  
दान 641 1  
वृत्ति 641 17

**अनुदार**  
उग्रयादी 343 21  
कृपण 639.26  
मितव्ययी 644.23  
सकीर्णहृदय 818 10

**अनुदारता**  
अधमता 840 1  
कृपणता 639 9  
दानहीनता 639 10  
मताधता 343 11

**अनुदासीनता**  
पक्षधरता 885 1

**अनुदिन**  
प्रति दिन 1049 20  
प्रति दिन 73 8

**अनुदिश**  
अनुदिशत 1098 29

**अनुदिश गमन**  
दिशानुगमन 1098 7

**अनुदिश गामी**  
दिशानुगामी 1098 24

**अनुदिश जाना**  
दिशानुगमन 1098 17

**अनुदिशतः**  
अनुदिशतः 1098 29 ⇨

**अनुदेय**  
अनुदेय 634 29 ⇨

**अनुदेश**  
अनुदेश 435.14 ⇨

**अनुदेशक**  
अनुदेशक 323 22 ⇨

**अनुदघाटन**  
रहस्य रक्षा 823 8

**अनुदघाटित**  
रक्षित (रहस्य) 823 14

**अनुद्धत**  
विनम्र 733 19

**अनुद्धततः**  
विनम्रत 733 23

**अनुद्धतता**  
विनम्रता 733 8

**अनुद्भव**  
अजनन 247 2

**अनुद्भूत**  
अजन्मा 247 7

**अनुद्यत**  
अनुद्यत 492 18 ⇨

**अनुद्यततः**  
अनुद्यतता 492.20 ⇨

**अनुद्यतता**  
अनुद्यतता 492 6 ⇨

**अनुद्यम**  
अप्रयत्न 490 1

**अनुद्यमी**  
अपरिश्रमी 490 11  
अप्रयत्नशील 490 9

**अनुद्योग**  
अप्रयत्न 490 1

**अनुद्विग्न**  
निरुद्विग्न 378 9

**अनुद्विग्नता**  
निरुद्विग्नता 378 3

**अनुद्वेग**  
निरुद्विग्नता 378 3  
प्रशमता 372.2

**अनुधावन**  
अनुगमन 1096 2

**अनुध्यात**  
विचारित 330 19

**अनुध्यान**  
विचारण 330.5

**अनुनय**  
अनुशासन 893 4  
प्रार्थना 350.4  
मनुहार 374 6

**अनुनयन**  
तुष्टीकरण 374 7

**अनुनयपूर्वक**  
विनम्रतः 733 23

**अनुनयी**  
प्रार्थी 350 18  
विनम्र 733.19

**अनुनाद**  
प्रतिध्वनि 294 4

**अनुनादक**  
प्रतिध्वनिकारी 294 24

**अनुनादन**  
ध्वनन 294 2

**अनुनादित**  
प्रतिध्वनित 294 23

**अनुनादी**  
प्रतिध्वनिकारी 294 24  
लाउड स्पीकर 300 9

**अनुनासिक**  
अनुनासिक वर्ण 410 8

**अनुनासिक चिह्न**  
अनुनासिक चिह्न 410 9 ⇨

**अनुनासिक वर्ण**  
अनुनासिक वर्ण 410.8 ⇨

**अनुनीत**  
अनुशासित 893 15  
प्रार्थित 350 17

**अनुन्मत्त**  
अमदोन्मत्त 211 16

**अनुनुख**  
प्रवृत्तिहीन 503 10

**अनुपगत**  
अप्राप्त 639 24

**अनुपगति**  
अप्राप्ति 639.7

**अनुपजाऊ**  
अनुर्वर (भूमि) 552 17  
वध्य 238 15

**अनुपजाऊ ज़मीन**  
ऊसर 552 3

**अनुपठन**  
अनुपठन 321.28 ⇨

**अनुपत्र**  
रिक्त अनुपत्र 623 16

**अनुपथ**  
अनुमार्गत 1098.28  
पगडंडी 1063 47

**अनुपव**  
अनुगामी 1096 10  
गीत स्थायी 451.23  
पद प्रति पद 1083 29  
पीछा 1096.3  
प्रतिरूपतः 967.23  
प्रतिशब्द व्याख्या 427 17  
संग संग 696 26

**अनुपवयी**  
सङ्क 1063.33

**अनुपदिष्ट ज्ञान**  
आंतरिक ज्ञान 305.4

**अनुपदी**  
खोजी 336.25

**अनुपपत्ति**  
तर्कहीनता 325 8

**अनुपपन्न**  
तर्कहीन 325.22

**अनुपभुक्त**  
अनुपभुक्त 525.6 ⇨  
अभुक्त 364 9

**अनुपभुक्तता**  
अभुक्तता 364 2

**अनुपभोग**  
अनुपभोग 525 1 ⇨

**अनुपभोग्य**  
अनुपभोग्य 525 7 ⇨

**अनुपम**  
अनुपम 312.17 ⇨

**अनुपमता**  
अनुपमता 312 4 ⇨

**अनुपम होना**  
अनुपम होना 312 12 ⇨

**अनुपमा**  
दिग्गज पत्नी सूची 780 4

**अनुपमेय**  
अनुपम 312 17

**अनुपमेयता**  
अनुपमता 312 4

**अनुपयुक्त**  
अनुपयोगी 525 8  
अप्रासंगिक 439 6  
अयोग्य 304 6  
अवसर प्रतिकूल 70 15  
असंगत 439 5  
संसद अयोग्य 889 25  
सामजस्यहीन 701 9

**अनुपयुक्त अवसर**  
अनुपयुक्त अवसर 70.4 ⇨

**अनुपयुक्त अवसर पर**  
अनुपयुक्त अवसर पर 70.17 ⇨

**अनुपयुक्तता**  
अनुपयोगिता 525 2  
अयोग्यता 304 1  
असंगतता 439.1

**अनुपयुक्त स्थान**  
अनुपयुक्त स्थान 70.6 ⇨

**अनुपयोग**  
अनुपभोग 525 1

**अनुपयोगिता**  
अनुपयोगिता 525 2 ⇨

**अनुपयोगी**  
अनुपयोगी 525.8 ⇨

**अनुपयोगी वस्तु**  
अनुपयोगी वस्तु 526.1 ⇨

**अनुपपरंपरा**  
प्रधानुसारतः 795.18

**अनुपपरीक्षा**  
अनुपपरीक्षा 333.4

**अनुपल**  
प्रति क्षण 1049.19

**अनुपलक्षित**  
अपरिभाषित 317.18

**अनुपलब्ध**  
अनुपलब्ध 942.18 ⇨

अनुपलब्धता	कार्यान्वयन 505 5	अनुप्राणित	संबन्धित 715 12
अनुपलब्धता 942.4 ⇨	पालन पोषण 720 1	अनुप्राणित 1046.31 ⇨	अनुबद्धता
अनुपलब्ध होना	साधना 303 7	ऊर्जायित 101.14	वैशयकता 339 8
अनुपलब्ध होना 942.10 ⇨	अनुपुरुष	अनुप्राणित करना	अनुबद्धन
अनुपलब्धि	अनुगामी 1096.10	अनुप्राणित करना 1046.19 ⇨	अनुलनन 1010 3
अप्राप्ति 639 7	अनुपूरक अंश	अनुप्राणित होना	अनुबल
असफलता 513 1	परिशिष्ट 447 10	सफूर्ति आना 491 6	पृष्ठ रक्षक सेना 933.4
प्रतिफलहीनता 510 5	पूरक अंश 939 8	अनुप्रास	अनुबोध
अनुपलब्धि प्रमाण	अनुपूर्त	अनुप्रास अलंकार 454 9	क्यू 465.9
प्रमाण सूची 327 2	प्रतिपूर्त 634 35	अनुप्रास अलंकार	अनुभव
अनुपस्थित	अनुपूर्त करना	अनुप्रास अलंकार 454 9 ⇨	अनुभव 303 4 ⇨
अनुपस्थित 1022 7 ⇨	प्रतिपूर्त करना 634 22	अनुप्रेक्षा	प्रत्यक्ष अनुभूति 263.3
अवर्तमान 66 7	अनुपूर्ति	ध्यान 331 1	स्मृति 356 1
विलुप्त 824 24	प्रतिपूर्ति 634 15	सूक्ष्म निरीक्षण 284 18	अनुभव करना
अनुपस्थित होना	अनुपूर्व	अनुबंध	अनुभव प्राप्त करना 303 10
अनुपस्थित होना 1022 5 ⇨	आरोह कम्पि 991 22	अनुबंध 339 1 ⇨	अनुभूति होना 263 7
अनुपस्थिति	अनुपृच्छा	ठेका 659 13	अनुभवगम्य
अनुपस्थिति 1022 2 ⇨	अनुप्रश्न 333 4	सौदा 658 3	अनुभवगम्य 305.39 ⇨
नागा 494 7	अनुपेक्षक	अनुबंध अभाव	अनुभव पर पुनर्विचार
प्रविरति 329 9	अनुपेक्षक 184 9 ⇨	अननुबंध 338 13	सिंहावलोकन 330.10
रहितता 1007 1	अनुपेक्षा	अनुबंधकर्ता 339 35	अनुभव प्राप्त करना
विलोप 824 7	अनुपेक्षा 184 2 ⇨	अनुबंधकारी 339 33	अनुभव प्राप्त करना 303.10 ⇨
अनुपाठ	अनुपेक्षित	अनुबंध करना 339 24 ⇨	अनुभवयुक्तता
अनुपाठन 321 28	अनुपेक्षित 184 8 ⇨	अनुबंधकर्ता	प्रवीणता 303.8
अनुपात	अनुपेत	अनुबंध करना 339.35 ⇨	अनुभव सिद्ध
अनुपात 947 9 ⇨	अदीक्षित 321 39	अनुबंधकर्ता 339.35 ⇨	आज्ञमाया [आज्ञमाही] 524.17
अनुपातक	रहित 1007 3	अनुबंधकारी	अनुभवहीन
महापाप 812 3	अनुप्रथा	अनुबंधकारी 339.33 ⇨	अनुभवहीनता
अनुपातपूर्ण	प्रथानुसारत 795 18	अनुबंध तोड़ना	अनुभवहीनता 304.3 ⇨
आनुपातिक 947 24	अनुप्रमाणित	अनुबंध भग करना 338 29	किताबी ज्ञान 305 12
अनुपातयुक्त	अनुप्रमाणित 7.14 ⇨	अनुबंधन	अनुभवहीन सरल
आनुपातिक 947 24	अनुप्रयोज्य	अनुबंधन 1010 1	अनुभवहीन सरल 817.9 ⇨
सुडील 155 4	यिनियोज्य 438 7	अनुबंध न होना	अनुभवहीन सरलता
अनुपातयुक्तता	अनुप्रवाह	अनुबंध न होना 338.28 ⇨	अनुभवहीन सरलता 817.3 ⇨
सुडीलता 155 2	अनुप्रवाह 1096.16 ⇨	अनुबंध पत्र	अनुभवही
अनुपातहीन	अनुवात 867 9	अनुबंध पत्र 339 2 ⇨	अनुभवही 303.17 ⇨
कुडील 155 5	अनुप्रवाह तः	सधि पत्र 906 6	प्रवीण 303.22
अनुपातहीनता	अनुप्रवाह 1096 16	अनुबंध भंग	युक्तभोगी 363.16
कुडीलता 155 3	अनुप्रवेश	अनुबंध भंग 338.14 ⇨	अनुभाग
अनुपातीय	प्रवेश 1094 1	अनुबंध भंग करना	अनुभाग 937.4 ⇨
आनुपातिक 947 24	अनुप्रश्न	अनुबंध भंग करना 338.29 ⇨	परधभाग 995 6
अनुपान	अनुप्रश्न 333 4 ⇨	अनुबंध भंग कर्ता	अनुभागाध्यक्ष
औषध अनुपान 176 7	अनुप्रस्थ	अनुबंध भंग कर्ता 338 46 ⇨	अनुभागाध्यक्ष 652.19 ⇨
अनुपाय	अनुसितिज 1020 12	अनुबंधहीनता	अनुभागीय
विकल्पहीन 516.5	शयित 1027 15	अनुबंध 338 13	परध 995 16
अनुपाल	अनुप्रस्थ काट	अनुबंध होना	अनुभाव
संरक्षक 908 26	पड़ी काट 543 4	अनुबंध होना 339.23 ⇨	अग मुद्रा 464 33
अनुपालक	अनुप्रस्थता	अनुबंधित	अनुभाव 358.6 ⇨
अनुगामी 345 7	अनुसितिजता 1020.5	अनुबंधित 339.32 ⇨	अनुभाव प्रवर्धन
अभिपिता 720.12	शायिता 1027 7	अनुबंधितता	सात्त्विक अभिनय 464.27
आज्ञा पालक 347.12	अनुप्रस्थ शरीर स्थिति	वैशयकता 339.8	अनुभावी
कार्यान्वय कर्ता 505.28	शयन 1027 1	अनुबंधित न होना	प्रत्यक्ष साक्षी 876 18
पालक पोषक 720.20	अनुप्राणक	अनुबंध न होना 338.28	अनुभावण
संकट मोषक 910 10	ऊर्जायक 101 15	अनुबंधित होना	पुनरुक्ति 434.6
सरक्षक 908.26	अनुप्राणन	अनुबंध होना 339 23	वार्तालाप 435.1
अनुपालन	अनुप्राणन 1046.6 ⇨	अनुबद्ध	अनुभूत
अनुगमन 345.2	ऊर्जायन 101.6	अनुलन 1010.21	अनुभूत 263.10 ⇨
आज्ञा पालन 347.6			

## अनुभूत होना

परीक्षित 322 37  
अनुभूत होना  
अनुभूति होना 263.7  
अनुभूति  
अतज्ञान 761 3  
अनुभूति 263 1 ⇨  
भाव 358 1  
रसानुभूति 455 4  
सादृश्य आभास 309 4  
अनुभूति कर्ता  
अनुभूति कर्ता 263 11 ⇨  
अनुभूति: केंद्र  
अंतरिद्रिय 268 4  
अनुभूति जगत  
चेतन जगत 121 1  
अनुभूति प्रवण  
भावुक 358 26  
सधेदनशील 393 18  
अनुभूति प्रवणता  
सधेदनशीलता 393.2  
अनुभूतियुक्त  
चेतनायुक्त 263 12  
अनुभूति विकार  
चित्त विकार 353 2  
अनुभूतिहीन  
अनुभूतिहीन 264.19 ⇨  
अनुभूतिहीन (दे.)  
अवसन्न 264 22  
अनुभूतिहीन जगत  
जड़ जगत 78.3  
अनुभूतिहीनता  
अनुभूतिहीनता 264 1 ⇨  
अवसन्नता 264 4  
चेतनाहीनता 264.2  
अनुभूति होना  
अनुभूति होना 263 7 ⇨  
अनुभूतीन्द्रिय  
ज्ञानेन्द्रिय 268.5  
अनुभूतिका  
अनुभूति कर्ता 263 11  
अनुभोग  
उपभोग 524 1  
अनुभूता  
छोटा भाई 723 12  
अनुमंता  
अनुमति प्रदाता 337 24  
अनुमत  
अनुमति दत्त 337 22  
अनुमति प्राप्त 337 23  
अनुमति  
अनुमति 337 5 ⇨  
प्रतिपदायुक्त पूर्णिमा 44 25  
अनुमति अदत्त  
अनुमति अदत्त 338.35 ⇨  
अनुमति अप्रदत्त  
अनुमति अदत्त 338 35  
अनुमति अप्राप्त  
अनुमति अदत्त 338 35

अनुमति अयोग्य  
अनुमति अयोग्य 338.34 ⇨  
अनुमति चाहना  
विदा मोंगना 1058 5  
अनुमति दत्त  
अनुमति दत्त 337.22 ⇨  
अनुमति दान  
निर्गम अनुमति दान 1092 5  
अनुमति देना  
अनुमति देना 337 12 ⇨  
अनुमति न देना  
अनुमति न देना 338.19 ⇨  
अनुमति पत्र  
अनुमति पत्र 337.6 ⇨  
प्रवेश पत्र 1094 7  
अनुमति प्रवत्त  
अनुमति दत्त 337.22  
अनुमति प्रदाता  
अनुमति प्रदाता 337.24 ⇨  
अनुमति प्राप्त  
अनुमति प्राप्त 337.23 ⇨  
अनुमति मोंगना  
विदा मोंगना 1058 5  
अनुमतिहीन अनुपस्थिति  
नागा 494 7  
अनुमतिहीनता  
अननुमति 338 3  
अनुमतिहीन प्रेम विवाह  
गाधर्व विवाह 799 23  
अनुमरण  
सती चितारोहण 249.16  
अनुमाता  
अदाज्ञा कर्ता 947 19  
अनुमान  
अदाज्ञा 947 1  
अनुमान 308 8 ⇨  
आरंभिक अवस्था सूची 994 23  
रसानुभूति 455 4  
अनुमान करना  
अदाज्ञा लगाना 947 15  
अनुमान करना  
अनुमान करना 308.13 ⇨  
अनुमान कर्ता  
अदाज्ञा कर्ता 947 19  
अनुमान कर्ता 308 21 ⇨  
अनुमानतः  
अदाज्ञान 947 28  
अनुमानतः 308 22 ⇨  
अनुमानन  
अंदाज़पट्टी 947.2  
अध्याहरण 325 10  
अनुमानन 308.9 ⇨  
अनुमान प्रमाण  
प्रमाण सूची 327 2  
अनुमान लगाना  
अदाज्ञा लगाना 947 15  
अनुमान लै  
अनुमानत 308 22

अनुमानहीनता  
कल्पनातीतता 944.4  
अनुमानातीत  
प्रत्याशातीत 944 9  
अनुमानातीतता  
कल्पनातीतता 944 4  
प्रत्याशातीतता 944.3  
अनुमानित  
अनुमानित 308.20 ⇨  
प्रत्याशित 375 9  
अनुमानितता  
प्रत्याशितता 375 6  
अनुमानरूपतः  
प्रत्याशिततः 941.12  
अनुमापक  
आकलन कर्ता 947.22  
अनुमार्ग  
अनुमार्गतः 1098 28  
अनुमार्ग गमन  
मार्गानुगमन 1098.6  
अनुमार्ग गामी  
मार्गानुगामी 1098 23  
अनुमार्ग चलना  
मार्गानुगमन करना 1098.16  
अनुमार्गतः  
अनुमार्गत 1098.28 ⇨  
अनुमित  
अनुमानित 308.20  
अनुमित परिमाण  
अदाज्ञा 947.1  
अनुमिति कर्ता  
अनुमान कर्ता 308.21  
अनुमितियाद  
हिंदी काव्य सिद्धांत सूची 453 12  
अनुमेय पक्ष  
पूर्व पक्ष 324 11  
अनुमोदक  
अनुमोदक 329.21 ⇨  
अनुमोदन  
अनुमोदन 329.2 ⇨  
प्रसन्न 381 2  
अनुमोदन करना  
अनुमोदन करना 329.12 ⇨  
अनुमोदित  
अनुमोदित 329.20 ⇨  
प्रसन्न 381.7  
विधि सगत 514 14  
शास्त्र सगत 318.7  
अनुम्लोचा  
अप्सरस सूची 782 3  
अनुयाचक  
समर्थन याचक 329 26  
अनुयाचना  
समर्थन याचना 328.5  
अनुयान  
अनुयान 1070.9 ⇨  
अनुयायन  
अनुगमन 345.2

अनुयायिता  
अनुयायिता 345.1  
पक्षधरता 885.1  
अनुयायी  
अनुगामी 1096 10  
अनुगामी 345.7  
अनुयायी [अनुयायिनी]  
पक्षधर 885.33  
अनुयायी जन  
धार्मिक जन साधारण 743.1  
अनुयुषम (प्र)  
ऐनज़ाइम 179.7  
अनुयोक्ता  
तथ्यानवेषण आयोग 336.2  
शिकायत कर्ता 843 27  
अनुयोग  
तथ्यानवेषण आयोग 336.2  
तथ्यानवेषण 336.1  
अनुरंजक  
प्रसन्नताप्रद 381 9  
सतोषप्रद 360.20  
अनुरंजन  
प्रसन्न 381 2  
संसिक्तन 1008 15  
साम नीति 819 4  
अनुरंजित  
प्रसन्न 381 7  
संसिक्त 1008 29  
अनुरंजितता  
संसिक्तता 1008.16  
अनुरक्त  
आसक्त 365 5  
निष्ठावान 826 9  
प्रवृत्तिशील 502.9  
प्रेमासक्त 368 21  
संसिक्त 1008 29  
अनुरक्ति  
आसक्ति 365 1  
प्रेम 368 1  
भक्ति 752.1  
अनुरक्ति भाव  
अनुरक्ति भाव 752.11 ⇨  
अनुरक्त  
तल्लीन 331.14  
निष्ठावान 826.9  
प्रवृत्तिशील 502.9  
अनुरक्तता  
समाधिस्थता 755 4  
अनुरक्ति  
आसक्ति 365.1  
तल्लीनता 331.8  
अनुरथ्या  
सकक पार्व 1084.1  
अनुरथण  
प्रवर्तन 893.3  
अनुरस  
अप्रधान रस 455.3

<b>अनुशयान</b>	आग्रह 349.1	<b>अनुलाप करना</b>	<b>अनुवर्तन</b>
अनुशयिक भाष 752.11	प्रार्थना 350.4	अनुलाप करना 435.2; ⇨	अनुवर्तन 1096 2
आसक्ति 365.1	याधिका 875.15	<b>अनुलाभ</b>	<b>अनुवर्तिता</b>
प्रेम 368.1	<b>अनुरोधक</b>	अधि वेतन 643.27	उत्तर कालीनता 60 6
स्नेह 368.10	अनुरोधक 350.20 ⇨	<b>अनुलास्य</b>	क्रमिकता 991 2
<b>अनुशयानक</b>	<b>अनुरोध करना</b>	मोर 126.68	<b>अनुवर्ती</b>
सम्मोहनपूर्ण 367.7	अनुरोध करना 350.12 ⇨	<b>अनुलिपि</b>	अनुगामी 1096 10
<b>अनुशयाना</b>	<b>अनुरोध कर्ता</b>	अनुलिपि 414.4 ⇨	आज्ञा पालक 347.12
प्रेम करना 368.13	अनुरोधक 350.20	<b>अनुलिपित्र</b>	उत्तर कालीन 60.13
<b>अनुशयानमय</b>	<b>अनुरोधपूर्ण</b>	अनुलिपित्र 414.5 ⇨	<b>अनुवर्ष</b>
प्रेमपूर्ण 368.17	अनुरोधित 350 19	<b>अनुलिपित्र (प्र)</b>	ऐनुइटी 643 29
<b>अनुशयानिनी</b>	<b>अनुरोधित</b>	अनुलिपित्र 414.5	<b>अनुयाक</b>
प्रेमिका 368.3	अनुरोधित 350.19 ⇨	<b>अनुलिपि: प्रकार सूची</b>	शिक्षा पाठ 322.5
<b>अनुशयानी</b>	<b>अनुरोधी</b>	अनुलिपि प्रकार सूची 414.6 ⇨	<b>अनुयाचन</b>
प्रेम कर्ता 368.19	अनुरोधक 350 20	<b>अनुलेपन</b>	मत्र पाठ 749 14
प्रेमासक्त 368.21	<b>अनुर्वर</b>	आलेपन 292.3	<b>अनुयाधी</b>
प्रेमी 368 2	अनुर्वर (भूमि) 552 17	वर्जित दृश्य सूची 463.28	धर्म पाठी 749 11
<b>अनुशयानी [अनुशयानिनी]</b>	अफलित 118 17	<b>अनुलोम</b>	<b>अनुवात</b>
पूजक 751.3	रचनाहीन 528 5	आरोह क्रमिक 991 22	अनुवात 867 9 ⇨
<b>अनुशयान्य</b>	वनस्पतिहीन 111 32	<b>अनुलोम क्रम</b>	प्रतिवात स्थान 1073 24
प्रेम योग्य 368.18	<b>अनुर्वर (भूमि)</b>	आरोह क्रम 991 3	<b>अनुवातोर्मि</b>
<b>अनुशयान [अनुशयाना]</b>	अनुर्वर (भूमि) 552.17 ⇨	<b>अनुलोमतः</b>	अनुवात 867.9
कल्याण कामी 710.23	<b>अनुर्वरता</b>	आरोहतः 991 29	<b>अनुवाद</b>
<b>अनुशयाना</b>	रचनाहीनता 528.2	<b>अनुल्लंघक</b>	अनुवाद 427 6 ⇨
नक्षत्र सूची 4.6	बंध्यता 238.3	मर्यादा पालक 808.15	अनुवादित कृति 397.29
<b>अनुरिच्य</b>	<b>अनुलंगम</b>	<b>अनुल्लंघन</b>	व्याख्या 427 15
उत्तराधिकार 623.1	अनुलंगम 1010.5 ⇨	मर्यादा पालन 808.7	<b>अनुवादक</b>
<b>अनुरीति</b>	<b>अनुलंब</b>	सीमा सम्मान 1001 28	अनुवादक 427.25 ⇨
प्रधानुसारतः 795.18	लंब रेखा 968.34	<b>अनुल्लंघनीय मर्यादा</b>	<b>अनुवाचित</b>
<b>अनुशयान</b>	<b>अनुलंब काट</b>	मर्यादा रेखा 808 6	अनुवाचित 427 24 ⇨
सहस्रद्वय 386.2	खड़ी काट 543 5	<b>अनुल्लंघित</b>	<b>अनुवादी</b>
<b>अनुरूप</b>	<b>अनुलंबता</b>	अनतिक्रमित 1001 43	समान 309.22
अनुसार 514.26	प्रतिक्रियता 1020 4	<b>अनुल्लिखित</b>	<b>अनुवादी स्वर</b>
प्रतिरूपी 967.19	<b>अनुलंबित होना</b>	अख्यात 848 5	अनुवादी स्वर 459.22 ⇨
बतर्ज 458.61	धरा जाना 1019 9	<b>अनुल्लेखनीय</b>	<b>अनुवार्षिकी</b>
संगत 438.6	<b>अनुलंब्य गमन</b>	नगण्य 853.10	ऐनुइटी 643.29
समरूप 967.20	मार्गानुगमन 1098 6	<b>अनुल्लेखनीयता</b>	<b>अनुवास</b>
समान 309.22	लक्ष्यानुगमन 931.11	अख्याति 848 2	एनीमा 216.11
<b>अनुरूपक</b>	<b>अनुलग्न</b>	नगण्यता 853.3	<b>अनुविधान</b>
प्रतिरूप 967.9	अनुलग्न 1010.21 ⇨	<b>अनुवंश</b>	नियम पालन 879.7
<b>अनुरूपता:</b>	नत्थीकृत 417.15	धरावली 727.13	<b>अनुवीक्षण</b>
प्रतिरूपतः 967.23	<b>अनुलग्नक</b>	<b>अनुवंशतः</b>	सर्वेक्षण 284 23
<b>अनुरूपता</b>	अनुलग्नक 1010 4 ⇨	अनुवंशतः 727.44 ⇨	<b>अनुवीधि</b>
अवसरानुकूलता 70.2	पत्र अनुलग्नक 444 4	<b>अनुवंशता</b>	अनुतरंग 867.8
समरूपता 967.10	<b>अनुलग्नक पत्र</b>	आनुवंशिकता 727.17	<b>अनुवेतन</b>
समानता 309.5	पत्र अनुलग्नक 444 4	<b>अनुवंश सूचता</b>	पैशन 643.32
सामंजस्य 702.1	<b>अनुलग्न करना</b>	वंश 727 1	<b>अनुवीप</b>
<b>अनुरूपी</b>	अनुलग्न करना 1010.15	<b>अनुवंश संबंध</b>	अनुतरंग 867 8
प्रतिरूपी 967 19	<b>अनुलग्न वस्तुबंध</b>	जनन संबंध 716 1	<b>अनुवेत्सन</b>
<b>अनुरेख तत्त्व</b>	पत्र अनुलग्नक 444.4	<b>अनुवंशी</b>	मरहम पट्टी 174 17
सूक्ष्म मात्रिक तत्त्व 1008.8	<b>अनुलग्ननः</b>	आनुवंशिक 727.39	<b>अनुव्यत</b>
<b>अनुरेख पोषक</b>	अनुलग्नन 1010.3 ⇨	<b>अनुवंशीयता</b>	जैन साधु 790.24
सूक्ष्म पोषक 179.19	नत्थीकरण 417.13	आनुवंशिकता 727.17	<b>अनुशांसा</b>
<b>अनुरोधन</b>	<b>अनुलहर</b>	<b>अनुवक्ता</b>	सिफारिश 841.19
भृत्य संघेदना 253.17	अनुतरंग 867.8	उत्तरदाता 334.13	<b>अनुशय</b>
सहस्रद्वय 386.2	<b>अनुलाप</b>	<b>अनुबचन</b>	शयन 1027.1
<b>अनुरोध</b>	अनुलाप 435.9 ⇨	रटत 356.4	<b>अनुशयान [अनुशयाना]</b>
अनुरोध 350.8 ⇨	पुनरुक्ति 434.6		दुःखी 391.24

## अनुशायी

परघात्तापपूर्ण 380 12  
प्रीदधी 301 25

### अनुशायी

ईर्ष्यान्तु 709 6  
दुःखी 391 24  
परघात्तापी 380 13

### अनुशार

भूत 786 1

### अनुशासक

अनुशासक 893 16 ⇨  
शासक 890 5

### अनुशासन

अनुशासन 893 4 ⇨  
आज्ञा 347 1  
नियम पालन 879 7  
सयम 808 8

### अनुशासन पर्व

महाभारत पर्व सूची 771 23

### अनुशासनबद्ध

सुशासित 893 11

### अनुशासन में लाना

अनुशासित करना 893 9

### अनुशासनहीन

असयमी 809 9

### अनुशासनहीनता

अनुशासनहीनता 894.4 ⇨  
असयम 809 3

### अनुशासित

अनुशासित 893.15 ⇨

दडित 870 21  
व्यवस्थित 893 13

शासित 890 18

सयमित 808 16

सुशासित 893 11

### अनुशासित करना

अनुशासित करना 893 9 ⇨

### अनुशासितता

सुशासन 893 1

### अनुशासी

अनुशासक 893 16

सयमी 808 17

### अनुशास्ता

अध्यापक 323 8  
अनुशासक 893 16

धर्म उपदेशक 742 22

धर्म शिक्षक 742 21

शासक 890 5

### अनुशिक्षक

उपाध्याय 323 12

### अनुशिक्ष

अनुशासित 893 15  
शिक्षित 321 41

### अनुशीतक

शीतलक 105.22

### अनुशीतन

शीतलन 105 2

### अनुशीतित्र

शीतलक 105 22

### अनुशीलन

अध्ययन 321 23  
अनुशीलन 321 25 ⇨  
साधना 303 7

### अनुशीलित

अध्यीत 321 50

### अनुशोक

परघात्ताप 380 4

### अनुशोध

परघात्ताप 380 4

### अनुश्रव

वैदिक परंपरा 795 8

### अनुश्रुत

पारंपरिक 795 13  
प्रवादित 440 8

### अनुश्रुति

अपुष्ट समाचार 440 5  
परंपरा 795 1  
वैदिक परंपरा 795 8

### अनुश्रंग

आसक्ति 365 1  
प्रसंग 437 1  
प्रेमासक्ति 368.8  
लालसा 359.5  
संबंध 715 1  
सयोग 69.1

### अनुश्रंगी

अनुश्रंगी 1010 6 ⇨  
आसक्त 365 5  
प्रेमासक्त 368 21

### अनुश्रुभ

अनुश्रुभ 452 8 ⇨

### अनुश्रुता

आरंभ कर्ता 521 7  
यज्ञपति 753.4

### अनुश्रुत

कार्य 506 1  
कार्य आरंभ 521 1  
धर्म कर्म 747 1  
मगलोत्सव 796 1  
यजन 753 3  
सकल्पन 500 2

### अनुश्रुतेय

करणीय 505 18

### अनुश्रुषा

अनुश्रुषा 104 19 ⇨  
नील कमल 14.5

### अनुसंधान

अनुसंधान 307 4 ⇨  
खोज 336 4  
तथ्यान्वेषण 336 1  
नव प्रयोग 307 6  
विचारण 330 5

### अनुसंधान करना

अनुसंधान करना 307 8 ⇨

### अनुसंधान कर्ता

अनुसंधान कर्ता 307 16 ⇨

### अनुसंधान परिणाम

आयिष्कार 307.5

### अनुसंधानित

अनुसंधानित 307.15 ⇨

### अनुसंधानी

अनुसंधान कर्ता 307.16  
मीमांसक 427 30

### अनुसंधि

गुप्त परामर्श 332 4  
षडशत्रु 827 8

### अनुसमर्थक

अनुसमर्थक 329.23 ⇨  
मडन कता 326 17

### अनुसमर्थन

अनुसमर्थन 329.3 ⇨  
अनुसमर्थन 337.9 ⇨  
मडन 326 2

### अनुसमर्थन करना

अनुसमर्थन करना 329.13 ⇨  
अनुसमर्थन करना 337.14 ⇨

### अनुसमर्थित

अनुसमर्थित 329.22 ⇨

### अनुसर

अनुगामी 1096.10  
सहयात्री 1088 2

### अनुसरण

अनुकरण 505 8  
अनुगमन 1096 2  
अनुगमन 345 2  
आज्ञा पालन 347.6

### अनुसर्ष

सरीसृप 123.1

### अनुसाम

अनुकूल 885 37

### अनुसार

अनुसार 514.26 ⇨  
बतर्ज 458.61

### अनुसारणा

पीछा 1096 3

### अनुसारतः

अनुसार 514 26

### अनुसूची

अनुसूची 993.9 ⇨  
इडेक्स 993.8

### अनुसृत

पालित (आज्ञा) 347 20

### अनुस्तरण

छितराव 668.8

### अनुस्तरणी

बलिः गाय 754 16

### अनुस्मरण

संस्मरण 356.7  
स्मृति लाभ 356.10

### अनुस्यूत

अनुलग्न 1010.21  
संग्रहित 573 15

### अनुस्वन

प्रतिध्वनि 294.4

### अनुस्यार

अनुस्यार 410 10 ⇨

### अनुस्यार चिह्न

अनुस्यार चिह्न 410.11 ⇨

### अनुहार

आकार रूप 967 5  
कोटि 936.1  
समानता 309 5

### अनुहारी

अनुकरण कर्ता 505 31

### अनुहार्य

अनुकरणीय 505 29

### अनुक

मेहराब शिखर पत्थर 611 30

### अनुकूल

नियंत्रित 899 24

### अनुधान

वेदज्ञ 761 29

### अनुठा [अनुठी]

विलक्षण 312 16

### अनुठापन

विलक्षणता 312 3

### अनुक

अविवाहित 234 13

### अनुका

अनुका नायिका 456 14  
अविवाहिता 234 14

### अनुका नायिका

अनुका नायिका 456 14

### अनुका नायिका

अनुका नायिका 456 14 ⇨

### अनुकाः भाई

शकार 467 20

### अनुदित

अनुवादित 427.24

### अनुदित कृति

अनुदित कृति 397.29 ⇨

### अनून

अधिक 944 5

### अनूप

पूर्णशिक 940 13  
अति सुदर 157 8  
अनूपम 312.17

अनूप भूमि 25.25

तालाब 18 10

निम्न तट सूची 25.24

मैंदक 124 2

### अनूप बेश

निम्न तट सूची 25.24

### अनूप भूमि

अनूप भूमि 25.25 ⇨

### अनूरु

अरुण 777.14

सूर्योदय 5 8

### अनुजित

अप्रबल 488.14

### अनुर्ध्व

अत्योच्च 982.9

<b>अनृत</b> असत्य 821 1 असत्यतापूर्ण 821 16 <b>अनृतभाषी</b> असत्यवादी 821 17 <b>अनृती</b> असत्यवादी 821.17 <b>अनृमान्यु</b> अहिर्भन 785.3 <b>अनेक</b> अधिक 944 5 अनेक 940.10 ⇨ एकताहीन 699 14 <b>अनेक कृष्णः</b> अनेक गोपी सहित राधा महारास 462 11 <b>अनेकघर</b> दलघर 696.12 <b>अनेकता</b> अनेकता 940 2 ⇨ विविधता 310 3 <b>अनेकदा</b> अनेकदा 73 6 ⇨ <b>अनेकधा</b> विविधता 310 11 <b>अनेक पर घटित उक्ति</b> अन्योक्ति 434 7 <b>अनेक प्रकार से</b> विविधता 310 11 <b>अनेक बार</b> अनेकदा 73 6 <b>अनेक भाव मिलना</b> भाव शबल होना 358 21 <b>अनेकमूर्ति</b> विष्णु 768.1 <b>अनेकरूप</b> अनेकाकार 967 15 ईश्वर 764.1 परिवर्तनशील 532 17 <b>अनेकरूपता</b> अनेकाकारता 967 4 <b>अनेकलोचन</b> इंद्र 773 5 विराट पुरुष 764 22 शिव 767.1 <b>अनेकविध</b> विधि 310 8 <b>अनेकविधता</b> विविधता 310 3 <b>अनेक विषय विद्वान</b> अनेक विषय विद्वान 319.9 ⇨ <b>अनेकशः</b> अनेकदा 73 6 <b>अनेकांगी</b> बहुपक्षीय 885 32 <b>अनेकांत</b> परिवर्तनशील 532 17 <b>अनेकांतवाद</b> स्याद्वाद 737 5	<b>अनेकाकार</b> अनेकाकार 967 15 ⇨ <b>अनेकाकारता</b> अनेकाकारता 967 4 ⇨ <b>अनेकाग्र</b> ध्यानहीन 331.13 <b>अनेकाग्रता</b> ध्यानहीनता 331 3 <b>अनेकार्थक</b> अनेकार्थी 426 36 <b>अनेकार्थक शब्द</b> अनेकार्थक शब्द 426.20 ⇨ <b>अनेकार्थी</b> अनेकार्थी 426 36 ⇨ <b>अनेकेश्वर वाद</b> अनेकेश्वर वाद 760 17 ⇨ <b>अनेतर</b> अनेतर 945 6 ⇨ <b>अनेतरता</b> अनेतरता 945 3 ⇨ <b>अनेकांतिक</b> अनिर्धारित 328 15 सम्मिश्रित 1008 26 <b>अनेक्य</b> एकताहीनता 699 1 मतभेद 338 4 <b>अनैतिक</b> अनैतिक 816 4 ⇨ <b>अनैतिकता</b> अनैतिकता c 51 ⇨ <b>अनैतिकता (दे.)</b> विवाह अनिष्टा 806.1 <b>अनैतिक युद्ध</b> नियम विरुद्ध युद्ध 907 33 <b>अनोखा [अनोखी]</b> अनुपम 312 17 अभूतपूर्व 312 18 जिज्ञासाजनक 305.43 विलक्षण 312 16 <b>अनोखापन</b> अनुपमता 312.4 अभूतपूर्वता 312 5 विलक्षणता 312.3 <b>अनोजस्वी</b> अतेजस्वी 339 10 <b>अनीधित्य</b> असंगतता 439 1 <b>अनीदृत्य</b> विनम्रता 733 8 <b>अनीपचारिक</b> अनीपचारिक 185 9 ⇨ <b>अनीपचारिकता</b> अनीपचारिकता 185.11 ⇨ <b>अनीपचारिकता</b> अनीपचारिकता 185.3 ⇨ <b>अनीपचारिकतापूर्वक</b> अनीपचारिकता 185.11	<b>अनीपचारिक देश</b> अनीपचारिक देश 589.15 ⇨ <b>अनीरस</b> अनीरस 716.16 ⇨ <b>अन्-</b> बुरा. उपसर्ग सूची 314.11 रहित उपसर्ग सूची 1007.5 <b>अन्न</b> अनपका भिक्षात्र 642.9 अनाज 187 1 आहार पदार्थ 186 1 विष्णु 768 1 <b>अन्न उत्पादक देवता</b> शुनाशीर द्वय 773 46 <b>अन्नकूट</b> अन्न ढेर 686 9 दीवाली उत्सव समूह सूची 57 16 <b>अन्न ग्रहण</b> भोजन कर्म 181.4 <b>अन्नजल</b> आहार पदार्थ :86 1 निवास सयोग 616 2 <b>अन्न ढेर</b> अन्न ढेर 686.9 ⇨ <b>अन्नदा</b> अन्नपूर्णा 176 1 दुर्गा 776 7 <b>अन्नदाता</b> ईश्वर 764 1 कृषक 548 2 पद्मपिता सूची 717 6 पालक पोषक 720 20 भृति भर्ता 650.29 भोजन प्रदाता 183.42 <b>अन्न दान</b> अन्न दान 641 10 ⇨ <b>अन्नद्वेष</b> अल्पाहार 182 5 <b>अन्नद्वेषी</b> अल्पाहारी 182 16 <b>अन्नपति</b> अग्नि 106 1 सूर्य 8 1 <b>अन्नपाक</b> पाचन 178 3 <b>अन्नपूर्णा</b> अन्नपूर्णा 776 1 ⇨ कृषि देवी सूची 774 5 दुर्गा 776 7 <b>अन्नपूर्णा पर्वत</b> भारत उपमहाद्वीपः पर्वत सूची 17.1 <b>अन्नपूर्णेश्वरी</b> अन्नपूर्णा 776 1 भैरवी सूची 776.14 <b>अन्नप्राशन</b> भोजन कर्म 181.4 सोलह संस्कार सूची 798.3	<b>अन्नप्राशन संस्कार</b> अन्नप्राशन संस्कार 798.10 ⇨ <b>अन्न भंडार</b> अनाज गोदाम 670 18 <b>अन्नमय</b> शिव 767 1 <b>अन्नमय कोश</b> आत्मा आवरण सूची 763.8 शरीर 139 1 <b>अन्नमल</b> विष्टा 216 2 <b>अन्न वाहिनी</b> आहार नली 145.8 <b>अन्न विकार</b> जीव द्रव्य 129 1 <b>अन्न वितरण</b> आहार वितरण 183 30 <b>अन्नशोध</b> उच्छिष्ट आहार 198.3 <b>अन्नसत्र</b> आहार वितरण केन्द्र 183 31 <b>अन्नाकुर</b> अनाज पीद 113.6 <b>अन्ना</b> ताऊ 722 20 दाई 244.6 धाय माँ 720 2 घट्टी 109 10 माता 717 7 <b>अन्नाकाल</b> दुर्भिक्ष 627 4 <b>अन्नागार</b> अनाज गोदाम 670.18 <b>अन्नाद</b> अन्नाहारी 204 10 विष्णु 768.1 <b>अन्नाद्य</b> सीधा खाना 197.5 <b>अन्नामले</b> पहाड़ियाँ भारत उपमहाद्वीपः पर्वत सूची 17.1 <b>अन्नाहारी</b> अन्नाहारी 204.10 ⇨ <b>अन्नोत्पादक</b> कृषक 548 2 <b>अन्नोत्पादन</b> कृषि 548.1 <b>अन्नोत्सर्ग</b> घटावा 750.12 <b>अन्य</b> असदृश 310 6 इतर 945 5 और 945 10 परजन 725 3 भिन्न कोटीय 936.10 वैकल्पिक 516 4 <b>अन्य अपि</b> और भी 945.11
---	---	---	---

## अन्य उपाय

अन्य उपाय  
 विकल्प 516 1  
 अन्य कलाकार  
 ऐकस्ट्रा 464 19  
 अन्य का  
 परजनीय 725 7  
 अन्य काल  
 भिन्न काल 60 1  
 अन्य काल में  
 भिन्न काल में 60 15  
 अन्य कालीन  
 भिन्न कालीन 60 11  
 अन्य कालीनता  
 भिन्न कालीनता 60 2  
 अन्य का वचन: अनुकथन  
 अनुदेश 435 14  
 अन्य का वचन: समर्थन  
 अतिदेश 435 13  
 अन्य का सिंगार करना  
 शृंगार कर्म करना 222 15  
 अन्य के द्वारा वचन कथन  
 सदेश 443 1  
 अन्यगामिनी  
 व्यभिचारिणी 806.11  
 अन्यगामी  
 व्यभिचारी 806 10  
 अन्यचित्त  
 उदास 380 14  
 अन्यध्व  
 पुन 73 5  
 अन्य छोर  
 अन्य छोर 1000 4 ⇨  
 अन्य जन्म  
 अन्य जन्म 248 4 ⇨  
 अन्य जाति  
 विजाति 730 2  
 अन्य जातीय  
 विजातीय 730 19  
 अन्यतः  
 अस्वत कृतत 505 37  
 विकल्पत 516 6  
 अन्यतम  
 उत्तम 313 13  
 अन्यतमता  
 उत्तमतमता 313 3  
 अन्यता  
 इतरता 945 2  
 परजन भाषना 725 4  
 अन्यत्र  
 अन्यत्र 30 9 ⇨  
 अन्यत्र नयन  
 अपनयन 1053 3  
 अन्यत्र बाहक  
 अपनायक 1053 14  
 अन्यथा  
 अधया 945 13  
 अन्यथा 514.25 ⇨  
 विकल्पत 516 6

अन्यदा  
 भिन्न काल में 60 15  
 अन्यदीय [अन्यदीया]  
 परजनीय 725 7  
 अन्यदीया  
 परकीया नायिका 456 12  
 अन्य देश  
 परदेश 34.11  
 अन्य देशीय  
 परदेशीय 34 18  
 अन्य धर्म  
 परधर्म 735 8  
 अन्य नाभीय  
 परधशी 727.31  
 अन्य पुरुष  
 वह 316 14  
 अन्य पुरुष सर्वनाम  
 सर्वनाम सूची 425 17  
 अन्यपुष्ट [अन्यपुष्टा]  
 परपालित 720 25  
 अन्यपुष्टा  
 कोयल 126 21  
 अन्य प्रकार  
 अन्यथा 514 25  
 अन्य प्रकार का  
 असदृश 310 6  
 अन्यभरण  
 परपालन 720 5  
 अन्य भाव  
 इतरता 945 2  
 द्वैत भाव 752 9  
 अन्यभूत [अन्यभूता]  
 परपालित 720 25  
 अन्यमनस्क  
 उदास 380 14  
 उद्विग्न 377 13  
 अन्यमनस्कता  
 उदासी 380.5  
 अन्य राग अंगः सामान्य अनुकरण  
 उपाग 459 27  
 अन्य राष्ट्र  
 परराष्ट्र 881 3  
 अन्य वंश  
 परवश 727 4  
 अन्य वंशीय  
 परवशी 727 31  
 अन्य संगम  
 विवाह अनिच्छा 806 1  
 अन्य से  
 अस्वत कृतत 505 37  
 अन्य स्त्री  
 परकीया नायिका 456 12  
 अन्य स्थान पर  
 अन्यत्र 30 9  
 अन्यस्य  
 परजनीय 725.7  
 अन्या  
 परकीया नायिका 456 12

अन्यादृश  
 असदृश 310.6  
 अन्यापदेश  
 अन्योक्ति 434 7  
 अन्यापि  
 और भी 945 11  
 अन्याय  
 अत्याचार 835 3  
 अनैतिकता 816 1  
 न्यायहीनता 874.3  
 अन्याय कर्ता  
 न्याय अकर्ता 874 38  
 अन्यायपूर्ण  
 न्यायहीन 874 35  
 अन्यायी  
 अत्याचारी 835 13  
 न्याय अकर्ता 874.38  
 अन्यारा [अन्यारी]  
 समान 309 22  
 स्यजनीय 725 5  
 अन्यून  
 अधिक 944 5  
 अन्योन्य भाव  
 कारण कार्य भाव 507 1  
 अन्योक्ति  
 अन्योक्ति 434.7 ⇨  
 अन्योदर  
 असहोदर 723.28  
 अन्योदरज  
 सीतेला [सीतेली] 717.14  
 अन्योदरता  
 असहोदरता 723 20  
 अन्योदर्य  
 असहोदर 723 28  
 अन्योन्य  
 पारस्परिक 703.10  
 अन्योन्यतः  
 परस्परत 703 12  
 अन्योन्यता  
 परस्परता 703 1  
 अन्योन्य प्रजनन  
 सकरण 243 7  
 अन्योन्याश्रय  
 कारण कार्य भाव 507 1  
 परस्परता 703.1  
 अन्यक्ष  
 अनुभवगम्य 305 39  
 उत्तर कालीन 60.13  
 अन्यक्षता  
 दृश्यता 282 9  
 अन्यय  
 अन्यय 427 3 ⇨  
 उपपत्ति 328.1  
 कारण कार्य भाव 507 1  
 क्रम 991 1  
 वंश 727.1  
 संबंध 715.1  
 सारांश 449.12

अन्यय कर्म  
 अन्यय 427 3  
 अन्ययन  
 अनुगमन 1096 2  
 अन्यय 427 3  
 करण 505 1  
 कार्यान्वयन 505 5  
 अन्यय व्यतिरेक  
 अपवाद अनपवाद 879 11  
 अन्ययागत  
 आनुवंशिक 727 39  
 अन्ययागतता  
 आनुवंशिकता 727.17  
 अन्ययी  
 सहवंशी 727 30  
 अन्याकर्षण  
 अनुकर्षण 1051 8  
 अन्यायन  
 दहेज 802.4  
 अन्याहार्य अनि  
 पाघन शक्ति 178 2  
 अन्यित  
 कृत 505 20  
 संबंधित 715 12  
 सहित 1006 2  
 -अन्यित  
 सहित प्रत्यय सूची 1006.5  
 अन्यित [अन्यिता]  
 इच्छित 359 19  
 अन्यितता  
 सहितता 1006.1  
 अन्यिति  
 कार्यान्वयन 505 5  
 अन्यीक्षण  
 अन्यीक्षण 284.20 ⇨  
 खोज 336 4  
 तथ्यान्वेषण 336 1  
 ध्यानन 331 2  
 अन्यीक्षा  
 अन्यीक्षण 284.20  
 खोज 336 4  
 ध्यान 331 1  
 अन्येषक  
 अनुसंधान कर्ता 307.16  
 आधिष्कर्ता 307.18  
 अन्येषण  
 आधिष्कार 307.5  
 खोज 336 4  
 अन्येषण कर्ता  
 अनुसंधान कर्ता 307 16  
 अन्येषणा  
 खोज 336.4  
 अन्येषा  
 खोज 336.4  
 अन्येषित  
 अनुसंधानित 307.15  
 आधिष्कृत 307.17  
 तथ्यान्वेषित 336.23



प्रतिलिख्य 863.8	अपकारक जादू	अपक्रामाणी	अपच
अन्वेषी	अपकारक जादू 474.7 ⇨	पीछे हटने वाला 91६.24	अजीर्ण 163 26
अनुसंधान कर्ता 307.16	अपकार करना	अपक्ष्य	अपचारी
आदिष्कर्ता 307.18	अपकार करना 831.9 ⇨	अनुभवहीन 304.8	दुर्जन 818 5
अन्वीरी	अपकार कर्ता 831.14 ⇨	अपक्ष्य 195.78 ⇨	दुश्चरित्र 811.5
मरोड़ी 165.10	अपकार कर्ता 831.14 ⇨	अपक्ष्य (वनस्पति) 118.20	अपचित
अपंकिल	अपकारकः क्षमा	अपरिपाचित 195 66	अपरिपाचितः 195 66
स्वच्छ 218 33	क्षमा 872.1	अपक्ष्य (वनस्पति)	अपच्छाया
अपंख	अपकारिता	अपक्ष्य (वनस्पति) 118.20 ⇨	कुछाया 711.4
अपंखोद्भूत 151 18	अपकारिता 831.5 ⇨	अपक्ष्य आहार	अपच्युत
अपंखोद्भूत	अपकारी	कच्चा खाना 197 3	द्रवित 80.6
अपंखोद्भूत 151.18 ⇨	अपकार कर्ता 831.14	अपक्ष्यता	पतित 1031 24
अपंग	शत्रु 706.2	पूर्वजातता 62.7	अपच्युति
असहाय 701.8	अपकार्य	अपक्ष	हास 531 3
क्षमताहीन 488.15	दुष्कर्म 812 6	पंखहीन 153 21	अपछाया
लेंगड़ा लूला 153 20	अपकाष्ठा	पक्षपातहीन 887.10	कुछाया 711.4
विकलाग 153 15	अपकाष्ठा 535.3 ⇨	मित्रहीन 705.29	भूत 786 1
अपंगघात	निम्न दिशा 983 2	अपक्षधर	भूत बाधा 759 7
पक्षाघात 264 11	अपकाष्ठागत	अपक्षधर 887.9 ⇨	होआ 785.8
अपंगतः	अपकाष्ठागत 535.8 ⇨	अपक्षधरता	अपदुडेट (अँ)
असहायतः 701 10	अपकीर्त	अपक्षधरता 887.1 ⇨	आधुनिकतम 64.8
अपंगता	अलोकप्रिय 850 8	अपक्षधर होना	क्रैशानानुकूल 222 18
विकलांगता 153.2	कुख्यात 848 4	अपक्षधर होना 887 6 ⇨	अपदुता
अपंगु	अपकीर्तन	अपक्षपात	अप्रवीणता 304 4
सर्वांग 153 14	निन्दन 843.2	अपक्षपात 887.1	अपठनीय
अपंडित	अपकीर्ति	पक्षपातहीनता 887 2	अपठनीय 401.12 ⇨
अपिद्धान 320 4	अलोकप्रियता 850.3	अपक्षपाती	कुलिखित 412 48
अप-	कुख्याति 848.1	पक्षपातहीन 887.10	अपठनीय लिखाई
बुरा. उपसर्ग सूची 314 11	अपकीर्ति करना	अपक्षय	कुलेख 412 12
अपकर्ता	निंदा करना 843	कुपोषण 179 4	अपठय
अपकार कर्ता 831.14	अपकृत	नाश 531 1	अपठनीय 401 12
शत्रु 706.2	अपकृत 831.13 ⇨	अपक्षीय	कुलिखित 412 48
अपकर्म	अपकृत्य	अपक्षधर 887 9	अपड
घोटाला 865.8	अपकार 831.4	अपक्षेप	अशिक्षित 321 42
दुष्कर्म 812.6	अपकृष्ट	टिप्पा 1052 10	निरक्षर 320 5
अपकर्म	अयतन 535.5	अपक्षेपण	अपङ्गता
घोटालेबाज 865.24	निकृष्ट 314 5	अधोक्षेपण 1052 12	निरक्षरता 320 2
अपकर्मी	विस्थापित 1036.13	अपक्षोद्भूत	अपलंभक
दुष्कर्मी 812.15	अपकेंद्र	अपखोद्भूत 151 :8	हिस्टीरिया 353.8
अपकर्ष	केंद्रविमुख 1023.12	अपगत	अपलंभक रोग
अवनति 535.1	अपकेंद्रण	पलायित 916 19	हिस्टीरिया 353 8
हास 531.3	केंद्राप्रसरण 971 13	व्यतीत 74 3	अपति
अपकर्षक	अपकेंद्रता	अपगति	विधवा 804.15
अधोकर्षक 1062.40	केंद्रहीनता 971.9	अवपतन 1031 2	स्यामीहीन 621 25
हासक 531.13	अपकेंद्र बल	दुर्भाग्य 260 18	अपतिव्रत
अपकर्षकारी	अपकेंद्र बल 1050.3 ⇨	अपगा	पतिव्रतहीनता 806 2
अवनतिकारी 535.7	अपकेंद्रित	नदी 20.1	अपस्तीकता
कर्षण	केंद्रहीन 971.23	अपगुण	पत्नीहीनता 804 13
अधोकर्षण 1062.21	अपकेंद्रीय	अपगुण 781 11	अपत्य
अपकर्षित	केंद्रविमुख 1023.12	दुर्गुण 314.4	संतान 718.1
अधोकर्षित 1062.39	केंद्राप्रसारी 971.27	अपगुणी	अपत्र
अपकार	अपक्रम	दुर्गुणी 314.8	अपंखोद्भूत 151 18
अपकार 831.4 ⇨	क्रमहीन 992 5	अपघात	पंखहीन 153.21
अपमान 855.1	अपक्रमण	अपहत्या 251.8	पल्लवहीन 115.14
अहित 712.2	पीछे हटना: कर्म 916.6	दुर्घटना मृत्यु 249 6	अपथ्य
अपकारक 831.15 ⇨	अपक्रमतः	दिम्बासघात 827 4	अनाहार्य 197.23
	क्रमहीनतः 992.7	अपष्पाती	अहितकारी 712.15
		मारने वाला 251 26	कुपथ्याहार 182.8 "

## अपद

स्वास्थ्यहर 162 6  
**अपद**  
रेगने वाला 1084 48  
**अपदचर**  
आरूढ़ 1082 29  
**अपद चरण**  
आरोहण 1082 1  
**अपदस्थ करना**  
घ्युत करना 653 27  
**अपदस्थीकरण**  
सत्ता घ्युति 902 3  
सेवा घ्युति 653 15  
**अपदार्थ**  
अवास्तविक 821 20  
नगण्य 853 10  
**अपदार्थता**  
अनस्तित्व 247 1  
नगण्यता 853 3  
**अपदेयता**  
दैत्य 783 17  
भूत 786 1  
**अपदेश**  
अपदेश 435 15 ⇨  
**अपद्रव्य**  
धातु खोट 98 5  
**अपद्रव्यता**  
धातु खोट 98 5  
**अपद्रावक**  
अपाहर्ता 862 10  
**अपद्रायण**  
अपाहरण 862 4  
**अपद्रायित**  
अपाहृत 862 9  
**अपध्वंस**  
नाश 531 1  
पतन 1031 1  
**अपनत्व**  
व्यक्तित्व 836 1  
**अपनत्वपूर्ण**  
पारिवारिक 726 13  
ममतापूर्ण 721 13  
मित्रतापूर्ण 705 26  
स्वजन भावनापूर्ण 725 6  
**अपनत्वपूर्णता**  
स्वजन भावना 725 2  
**अपनत्वहीन**  
परजन भावनापूर्ण 725 8  
**अपनयन**  
अपनयन 1053 3 ⇨  
अपाहरण 862 4  
खंडन 326 3  
स्थान परिवर्तन 1036 1  
**अपनयन (दे.)**  
पहुँचाई 1053 5  
**अपना [अपनी]**  
औरस 716 15  
निजी (संपत्ति) 624 16  
पारिवारिक 726 13

मेरा [मेरी] 316 27  
मौलिक 397 36  
रिशतेदार 715 6  
वैयक्तिक 689 3  
स्वजनीय 725 5  
स्वदेशीय 34 20  
स्वपक्षीय 885 27  
**अपना अनोखापन**  
व्यक्तित्व 836 1  
**अपना अपना राग अलापना**  
सामंजस्य न होना 701 6  
**अपना आना**  
अह तत्त्व 351 3  
**अपना उल्लू सीधा करना**  
स्वार्थ साधन करना 712 12  
**अपना कहा काटना**  
अपलाप करना 435 22  
**अपना काम**  
स्वनिर्भोजन 653 8  
**अपना ढोल बजाना**  
आत्मप्रशंसा करना 842 6  
**अपना दूध पिलाना**  
रतन दान करना 207 17  
**अपना देश**  
स्वदेश 34.12  
**अपना धंधा**  
स्वनिर्भोजन 653 8  
**अपना धर्म**  
स्वधर्म 735 7  
**अपना नहीं**  
परजनीय 725 7  
**अपनाना**  
अगीकार करना 1002 16  
दत्तक बनाना 716 13  
**अपना पक्ष**  
स्वपक्ष 885 4  
**अपना पति**  
स्वपति 805 2  
**अपनापन**  
अनुपमता 312 4  
जनन सबंध 716 1  
पारिवारिकता 726 2  
ममता 721 2  
मौलिकता 397 23  
रिशतेदारी 715.5  
वैयक्तिकता 689 2  
व्यक्तित्व 836 1  
सहोदरता 723 17  
सीमातार्गतता 1001 21  
स्थायी वास 618 9  
स्वजन भावना 725 2  
**अपनापन खोना**  
योगिक होना 1008 20  
**अपनापा**  
पारिवारिकता 726 2  
स्वजन भावना 725 2  
**अपना बनाना**  
अगीकार करना 1002 16

प्रेम करना 368 13  
**अपनाम**  
कुख्याति 848 1  
**अपना मर्द**  
स्वपति 805 2  
**अपना मानना**  
प्रेम करना 368 13  
**अपनायक**  
अपनायक 1053 14 ⇨  
अपाहर्ता 862 10  
**अपनाया [अपनाई]**  
अगीकृत 1002 23  
**अपना राग अलापना**  
आत्मप्रशंसा करना 842 6  
**अपना राज्य**  
स्वाधीनता 900 1  
**अपना राष्ट्र**  
स्वराष्ट्र 881 4  
**अपनाय**  
अगीकरण 1002 3  
**अपना व्यवसाय**  
अपना व्यवसाय 650 12 ⇨  
**अपना सा मुँह ले कर रह जाना**  
लज्जित होना 845 6  
**अपना सिंगार करना**  
शृंगार करना 222 14  
**अपना स्थान**  
स्थायी स्थान 618 14  
**अपनी आहुति देना**  
आत्मबलि देना 754 19  
**अपनी उपमा आप होना**  
अनुपम होना 312 12  
**अपनी कहानी**  
आपबीती 450 17  
**अपनी गाना**  
अपनी ही बात कहना 435 17  
**अपनी चलाना**  
हेकड़ी चलाना 734 13  
**अपनी जाति**  
स्वजाति 730.3  
**अपनी जोरु**  
स्वपत्नी 805 3  
**अपनीत**  
अपनीत 1053 13 ⇨  
**अपनी धरती**  
स्वदेश 34 12  
**अपनी पत्नी**  
स्वपत्नी 805 3  
**अपनी पर आना**  
हेकड़ी चलाना 734 13  
**अपनी पीठ धपथपाना**  
आत्मप्रशंसा करना 842 6  
**अपनी बात पर आना**  
हठ करना 349 9  
**अपनी बात से फिरना**  
मुकरना 338 25  
**अपनी संपत्ति**  
निजी संपत्ति 624 14

**अपनी हँकना**  
अपनी ही बात कहना 435 17  
**अपनी ही बात कहना**  
अपनी ही बात कहना 435 17 ⇨  
**अपनुति**  
अपनयन 1053 3  
स्थान परिवर्तन 1036 1  
**अपने**  
स्वजन 725 1  
**अपने अंदर देखना**  
आत्मनिरीक्षण करना 284 46  
**अपने आप**  
अप्रयत्नत 490 15  
आदतन 836 14  
एकांतत 697 21  
मैं 316 20  
यत्र चालितत 1046 33  
स्वत कृतत 505 36  
स्वभावत 836 15  
**अपने आप उपजा**  
अकृषित (अनाज) 187 22  
**अपने आप न चलना**  
मानव चालित होना 1046 17  
**अपने आप नहीं**  
अस्वत कृतत 505 37  
**अपने किए होना**  
कर्तृत्व अधीन होना 260 21  
**अपने को तप्त करना**  
तापना 104 17  
**अपने को बेचना**  
वेश्या वृत्ति करना 807 15  
**अपने जैसा**  
अनुपम 312 17  
स्वरूपी 967 17  
**अपने तक रखना**  
रहस्य न खोलना 823 10  
**अपनेता**  
अपनायक 1053 14  
अपाहर्ता 862 10  
**अपने द्वारा**  
स्वकृतत 505.35  
**अपने पैरों**  
पैदल 1083 28  
**अपने पैरों न चलना**  
आरोहित होना 1082 25  
**अपने में खोया**  
आत्मलीन 331.15  
**अपने में खोयापन**  
आत्मलीनता 331.7  
**अपने में मगन होना**  
आत्मलीन होना 331 10  
**अपने में मगन**  
आत्मलीन 331 15  
**अपने राम**  
मैं 316 20  
**अपने लिए**  
स्वेच्छार्थ 650.23

अपने लोग  
स्वजन 725 1  
अपने सहारे होना  
स्वावलंबी होना 648 6  
अपने सा  
स्वजन भावनापूर्ण 725.6  
अपने हाथ  
कर्माधीनत 260 36  
अपने हाथ में न होना  
प्रारब्धाधीन होना 260 20  
अपने हाथ में होना  
कर्तृत्व अधीन होना 260 21  
अपनोद  
अपमयन 1053 3  
पाप बोध 813 3  
अपनोदन  
स्थान परिवर्तन 1036 1  
अपन्न  
अव्यक्तीत 74 4  
अपपाठ  
अपपाठ 412 34 ⇨  
अपपात्रित  
जाति निर्वासित 870 28  
अपभाषण  
अपभाषण 433 1 ⇨  
निदन 843 2  
अपभाषण करना  
अपभाषण करना 433 5 ⇨  
अपभाषा  
अपभाषा 433.2 ⇨  
अपभाषी  
अपभाषी 433 8 ⇨  
अपभोग  
गबन 865 7  
अपभ्रंश  
अपभ्रंश 421.10 ⇨  
विकार 536.1  
अपभ्रंश शब्द  
अपभ्रंश शब्द 423.5 ⇨  
अपभ्रष्ट  
विकृत 536 8  
अपमान  
अपमान 855.1 ⇨  
अपमान करना  
अपमानित करना 855.6  
अपमान कर्ता  
अपमान कर्ता 855 13 ⇨  
अपमानकारी  
अपमानजनक 855.10  
अपमानजनक  
अपमानजनक 855.10 ⇨  
अपमानन  
अपमानन 855.2 ⇨  
अपमानित  
अपमानित 855.11 ⇨  
अपमानित करना  
अपमानित करना 855.6 ⇨

अपमाननी  
अपमान कर्ता 855 13  
अपमान्य  
अपमान्य 855 12 ⇨  
अपमार्ग  
दुश्चरित्रता 811 1  
अपमार्गी  
दुश्चरित्र 811 5  
अपमार्जक जंतु  
अपमार्जक जंतु 121 15 ⇨  
अपमार्जक जीव  
अपमार्जक जंतु 121 15  
अपमार्जकाः (म्र)  
अपमार्जक जंतु 121 15  
अपमार्जित  
मार्जित 218 36  
अपमिश्रण करना  
खोट मिलाना 98 9  
अपमिश्रित  
अविशुद्ध 219 8  
खोटा [खोटी] 98 13  
अपमिश्रितता  
अविशुद्धता 219 3  
अपमृत्यु  
दुर्घटना मृत्यु 249 6  
अपमृत्यु चमीक्षा  
मृत्यु मीमासा 251 12  
अपमोचक  
राकेट मोचक 910 10  
अपयश  
कुख्याति 848.1  
अपयशी  
कुख्यात 848 4  
अपयान  
चुपचाप पलायन 916.2  
पीछे हटना: कर्म 916.6  
अपयोग  
अनुपयुक्त अवसर 70.4  
अपयोग करण  
घटान कर्म 954.6  
अपरंघ  
उपरात 39 16  
और भी 945.11  
तदापि 507.15  
पुनः 73.5  
अपरंतुक  
परंतुकताहीन 339 38  
अपरंतुकतः  
अपरंतुकतः 339 51 ⇨  
अपरंतुकता  
अपरंतुकता 339.12 ⇨  
अपरंपरागत  
अप्राचीन 64 9  
अपरंपरागतता  
अप्राचीनता 64 2  
अपरंपार  
असीम 1001.34

अपर  
इतर 945 5  
उत्तर कालीन 60 13  
अपर (अँ)  
उपरला 588 33  
अपर काल  
उत्तर काल 60 5  
अपरज  
यशज 727 24  
अपरज [अपरजा]  
अनुज [अनुजा] 723 25  
अपरजता  
अनुजता 723 11  
अपर त्वचा  
त्वचा स्तर सूची 134 7  
अपर दिशा  
पश्चिम 29 12  
अपर पत्र  
परिशिष्ट 447 10  
अपर लोक  
परलोक 258 12  
अपरस्पर  
अपरस्पर 697.18 ⇨  
अपरस्परता  
अपरस्परता 697.7 ⇨  
अपर हाउस (अँ)  
राज्यसभा 889 3  
अपरांत  
पश्चिमी सीमांत 1001 20  
अपरा  
जरायु 152 15  
पश्चिम 29 12  
लौकिक ज्ञान 305.8  
वेद ज्ञान 761 9  
वेद वेदांग 740.35  
अपराक्रमी  
अपरिश्रमी 490 11  
अपराग  
शत्रुता 706 1  
अपराजित  
अपराजित 913.6 ⇨  
रुद्र सूची 767 36  
विष्णु 768 1  
शिव 767.1  
अपराजितता  
अपराजितता 913.2 ⇨  
अपराजिता  
अपराजिता 774 7 ⇨  
कोयल 126.21  
दुर्गा 776 7  
देयसेना 774.47  
अपराजेय  
अजेय 519 27  
अपराजेयता  
अजेयता 519.11  
अपराध  
अपराध 861.1 ⇨

अपराध स्वीकार न करना  
अपराध (दे.)  
पाप 812 1  
अपराध अनावृत्त करना  
अपराध खोलना 866 19  
अपराध अस्वीकर्ता  
अपराध अस्वीकर्ता 876.29 ⇨  
अपराध अस्वीकृति  
अपराध अस्वीकृति 876.10 ⇨  
अपराधक [अपराधिक]  
अपराधी 861 14  
अपराध करना  
अपराध करना 861 12 ⇨  
अपराध कर्ता  
अपराधी 861 14  
अपराध क्षमा  
क्षमा 872 1  
अपराध क्षमा करना  
क्षमा करना 872 6  
अपराध खुलना  
अपराध खुलना 866.18 ⇨  
अपराध खोलना  
अपराध खोलना 866.19 ⇨  
अपराध: घटना  
अपराध घटना 861.2 ⇨  
अपराध चिकित्सा  
विधिक चिकित्सा 173 4  
अपराध परीक्षा  
मुकदमा सुनवाई 876.1  
अपराधपूर्ण मारण  
मानव घात 251 10  
अपराध बोध  
पाप बोध 813.3  
अपराध मानना  
अपराध स्वीकार करना 876.23  
अपराध मुक्त  
अपराध मुक्त 869.9 ⇨  
अपराध मुक्त करना  
अपराध मुक्त करना 869.6 ⇨  
अपराध मुक्ति  
अपराध मुक्ति 869 4 ⇨  
अपराध लगाना  
अभियोग लगाना 875.20  
अपराधशील  
अपराधशील 861.15 ⇨  
अपराध संस्वीकर्ता  
अपराध स्वीकर्ता 876.28  
अपराध सहयोग  
सह अपराधिता 861.4  
अपराध सहयोगी  
सह अपराधी 861.5  
अपराध सिद्धि  
दोष सिद्धि 877.3  
अपराध स्वीकर्ता  
अपराध स्वीकर्ता 876.28 ⇨  
अपराध स्वीकार करना  
अपराध स्वीकार करना 876.23 ⇨  
अपराध स्वीकार न करना  
अपराध स्वीकार न करना 876.25 ⇨

## अपराध स्वीकृति

अपराध स्वीकृति  
अपराध स्वीकृति 876.9 ⇨  
अपराधहीन  
अपराधहीन 861.16 ⇨  
अपराधहीनता  
अपराधहीनता 861.17 ⇨  
अपराधहीनता  
अपराधहीनता 861.3 ⇨  
अपराधहीन कारण  
निमित्त हत्या 251.9  
अपराधी  
अपराधी 861.14 ⇨  
सिद्धदोष 877.23  
अपराधीन  
स्वाधीन 900.7  
अपराधीनता  
स्वाधीनता 900.1  
अपराधीय  
अपराधीय 861.13 ⇨  
अपराधी साक्षी  
अपराधी साक्षी 876.15 ⇨  
अपराधी साक्ष्य  
अपराधी साक्ष्य 876.14 ⇨  
अपराधी होना  
अपराध करना 861.12  
अपराधभूत  
अप्रभावित 511.14  
अपराध  
उत्तरार्ध 447.12  
अपराधली  
त्वचा स्तर सूची 134.7  
अपरा विद्या  
लौकिक ज्ञान 305.8  
वेद वेदांग 740.35  
अपरा शक्ति  
अपरा शक्ति 776.20 ⇨  
अपरास्त  
अपराजित 913.6  
अपराहन  
अपराहन 47.11 ⇨  
कालचक्र नामि सूची 36.5  
अपराहन (दे.)  
दिन तीसरा पहर 49.5  
अपरिगणनीय  
असंख्य 944.8  
अपरिगणनीयता  
असंख्यता 944.3  
अपरिगणिततः  
असंख्यतः 944.13  
अपरिगत  
अप्राप्त 639.24  
अपरिगृहीत  
अनादत्त 639.22  
अपरिग्रह  
अपरिग्रह वृत्ति 360.4  
अपरिग्रह वृत्ति  
अपरिग्रह वृत्ति 360.4 ⇨

अपरिग्रही  
अपरिग्रही 360.18 ⇨  
अपरिचय  
अपरिचितता 697.5  
अपरिचित  
अज्ञ 306.16  
अपरिचित 697.16 ⇨  
अपरिचितता  
अपरिचितता 697.5 ⇨  
अपरिच्छादित  
अनावृत्त 822.29  
अपरिज्ञाता  
अज्ञ 306.16  
अपरिज्ञान  
अपरिज्ञान 306.8 ⇨  
अपरिणय  
आजीवन ब्रह्मचर्य 234.7  
ब्रह्मचर्य 234.3  
अपरिणामदर्शी  
अदूरदर्शी 302.13  
अपरिणीत  
अविवाहित 234.13  
अपरिणीता  
अविवाहिता 234.14  
अपरिधानन  
अपरिधानन 590.11 ⇨  
अपरिधानित  
नग्न 590.16  
अपरिपक्व  
अनुभवहीन सरल 817.9  
अपक्व 195.78  
अपरिपाचित  
अपरिपाचित 195.66 ⇨  
अपरिभाषा  
अपरिभाषा 317.3 ⇨  
अपरिभाषित  
अपरिभाषित 317.18 ⇨  
अस्पष्ट 823.11  
अपरिभाषितता  
अस्पष्टता 823.1  
अपरिभाष्य  
अपरिभाष्य 317.20 ⇨  
अपरिभाष्यता  
अपरिभाष्यता 317.4 ⇨  
अपरिभाषित  
अमापित 958.59  
अपरिभाष्य  
अमाप्य 958.60  
अपरिमित  
अमापित 958.59  
असंख्य 944.8  
असीम 1001.34  
अपरिमितता  
असंख्यता 944.3  
अपरिमेय  
अमाप्य 958.60  
असंख्य 944.8  
कल्पनातीत 944.10

अपरिमेयता  
अपरिभाष्यता 317.4  
असंख्यता 944.3  
कल्पनातीतता 944.4  
अपरिम्लान  
अम्लान 119.14  
अपरिवर्तन  
अपरिवर्तन 533.1 ⇨  
अपरिवर्तन बाद  
प्रतिक्रियावाद 884.17  
अपरिवर्तन वादी  
आदि सिद्धांतवादी 343.20  
यथास्थिति वादी 343.25  
अपरिवर्तनशील  
अनन्तर 37.9  
अपरिवर्तनशील 533.10 ⇨  
निष्ठावान 826.9  
अपरिवर्तनशीलता  
अपरिवर्तनशीलता 533.2 ⇨  
निष्ठा 826.1  
अपरिवर्तनीय  
धैर्यशील 394.15  
नियत 68.16  
अपरिवर्तनीयता  
नियतता 68.8  
अपरिवर्तनीय नियम  
अनपवाद 879.13  
अपरिवर्तित  
अपरिवर्तित 533.9 ⇨  
अपरिवर्तित रूप  
अपरिवर्तित रूप 533.3 ⇨  
अपरिवार  
परिवारहीन 726.15  
अपरिवारता  
परिवारहीनता 726.4  
अपरिवृत  
अनावृत्त 822.29  
अपरिशेष  
शेष फलहीन 954.16  
अपरिश्रम  
अपरिश्रम 490.3 ⇨  
अपरिश्रमी  
अपरिश्रमी 490.11 ⇨  
अपरिष्कृत  
अपरिष्कृत 533.12 ⇨  
असंख्य 734.14  
कलाहीन 403.4  
कुडील 155.5  
भदेस 403.6  
अपरिष्कृत चर्म  
अपरिष्कृत चर्म 582.27 ⇨  
अपरिष्कृतता  
असंख्यता 734.1  
कुडीलता 155.3  
भदेसपण 403.3  
अपरिष्कृत क्रूर  
अपरिष्कृत क्रूर 582.28 ⇨

अपरिष्कृति  
असंख्यता 734.1  
अपरिसीम  
अपरिसीमित 1001.36  
अपरिसीमित  
अपरिसीमित 1001.36 ⇨  
अपरिसीमितता  
अपरिसीमितता 1001.11 ⇨  
अपरिहारण  
अनिवारण 919.3  
अपरिहारित  
अनिवारित 919.8  
अपरिहार्य  
अत्यावश्यक 524.23  
अनिवार्य 919.9  
नियत 68.16  
वैश्यकतापूर्ण 339.38  
अपरिहार्यता  
अनिवार्यता 919.4  
आवश्यकता 524.7  
वैश्यकता 339.8  
अपरीक्षित  
अविचारित 330.24  
अपरुच  
कोमल 269.18  
क्रोधहीन 372.13  
अपरुचता  
कोमलता 269.4  
क्रोधहीनता 372.4  
अपरुप  
कलाहीन 403.4  
कुरूप 156.4  
भदेस 403.6  
विरूपितांग 153.24  
अपरुप करना  
तोड़ना मरोड़ना 975.23  
अपरुपण  
अंग विरूपण 153.7  
अपरुपता  
कलाहीनता 403.1  
कुरूपता 156.2  
अपरोक्ष  
इंद्रियगम्य 305.40  
समक्ष 1021.8  
अपरोक्षता  
समक्षता 1021.1  
अपरोक्षानुभूति  
प्रत्यक्ष ज्ञान 305.5  
अपरोध  
निषेध 880.1  
अपरोधक  
निषेध कर्ता 880.11  
अपरोपण  
उन्मूलन 548.28  
अपर्ण  
पल्लवहीन 115.14  
अपर्णा  
अपर्णा 776.10 ⇨

पार्वती 776.9  
**अपवीत**  
 असीम 1001.34  
**अपर्याप्त**  
 अपर्याप्त 942.17 ⇨  
 पर्याप्तता  
 अपर्याप्तता 942.3 ⇨  
**अपर्याप्त रहना**  
 अपर्याप्त रहना 942.9 ⇨  
**अपर्वक**  
 युतिहीन 1010.25  
**अपलक**  
 ताकते हुए 284 57  
 विस्फारिततः 119 15  
**अपलब्धि**  
 विलब्धि 863 1  
**अपलम् चपलम्**  
 शीघ्रतः 496 13  
**अपलाप**  
 अपराध अस्वीकृति 876 10  
 अपलाप 435.10 ⇨  
**अपलापक**  
 अपलापक 821.18 ⇨  
**अपलाप्य करना**  
 अपलाप्य करना 435.22 ⇨  
**अपलापी**  
 अपराध अस्वीकर्ता 876.29  
 अपलापक 821 18  
**अपलाभ**  
 मुनाफ़ाख़ोर 865 16  
 विलब्धि 863.1  
**अपलाभिया**  
 मुनाफ़ाख़ोर 865.27  
**अपलाभी**  
 मुनाफ़ाख़ोर 865.27  
 मलायन  
 प्रतिरोध 915.1  
**अपलायनशील**  
 प्रतिरोधी 915.11  
**अपलापी**  
 लालसी 359.29  
**अपलिखित**  
 अपलिखित 639.19 ⇨  
**अपलिखित करना**  
 अपलिखित करना 639 12 ⇨  
**अपलेखन**  
 अपलेखन 639.3 ⇨  
 रत्नव  
 पल्लवहीन 115.14  
**अपह्लासित**  
 पल्लवहीन 115.14  
**अपवर्धक**  
 प्रवर्धक 835.26  
**अपवर्धन**  
 प्रवर्धन 835.9  
**अपवर्धित**  
 प्रवर्धित 835.25

**अपवर्धित करना**  
 प्रवर्धित करना 835.15  
**अपवक्ता**  
 गाली देने वाला 433.9  
**अपवचन**  
 गाली 433.3  
 निंदा 843 1  
**अपवर्ग**  
 अपवाद 879 12  
**अपवर्जक**  
 निर्वासक 870.24  
**अपवर्जन**  
 वचन पालन 339.16  
**अपवर्जित**  
 परित्यक्त 1003.4  
**अपवर्जित क्षेत्र**  
 निषिद्ध क्षेत्र 1094 12  
**अपवर्त**  
 सामान्य विभाजक 955 16  
**अपवर्तक**  
 सामान्य विभाजक 955.16  
**अपवर्तन**  
 उचल पुचल 532.4  
 विभाजक संख्या 955 15  
 स्थान परिवर्तन 1036 1  
**अपवर्धित**  
 अपवर्धित 979.23 ⇨  
**अपवर्धित**  
 छिलका उत्तरा 542 19  
**अपवहन**  
 जल निकास 21.1  
**अपवाद**  
 अपवाद 879.12 ⇨  
 निंदा 843 1  
 प्रवाद 440.6  
 लीछन 843.7  
**अपवाद अनपवाद**  
 अपवाद अनपवाद 879.11 ⇨  
**अपवादक**  
 खंडन कर्ता 326.18  
**अपवादतः**  
 अपवादतः 879.25 ⇨  
**अपवादपूर्ण**  
 अपवादपूर्ण 879.22 ⇨  
**अपवादस्वरूप**  
 अपवादतः 879.25  
**अपवादहीन**  
 अपवादहीन 879.23 ⇨  
**अपवादहीनतः**  
 अपवादहीनतः 879.26 ⇨  
**अपवादहीनता**  
 अपवादहीनता 879.14 ⇨  
**अपवादी**  
 खंडन कर्ता 326.18  
**अपवारण**  
 गोपन 824.1  
**अपवाह**  
 अथो प्रवाह 21 18

**अपवाहक**  
 वाहक 1061.20  
**अपवाह क्षेत्र**  
 जल क्षेत्र 21.7  
**अपवाहन**  
 घटान कर्म 954.6  
 मघ प्रस्थान 468.27  
 स्थान परिवर्तन 1036.1  
**अपवाहित**  
 घटाया [घटाई] 954.14  
**अपवित्र**  
 अविशुद्ध 219 8  
 अशौच (आहार) 198 14  
 उच्छिष्ट 198.11  
 मलिन 217 6  
**अपवित्रता**  
 आहार अशौच 198.7  
 उच्छिष्टता 198 2  
 मलिनता 217 1  
**अपविद्युतन**  
 छिस्त्यार्जन 101.9  
**अपवृद्ध**  
 अपवर्धित 979.23  
**अपवृद्धि**  
 अपवृद्धि 979 5 ⇨  
**अपवोहा**  
 भार वाहक 1061 22  
**अपव्यय**  
 अपव्यय 644.3 ⇨  
**अपव्यय करना**  
 अपव्यय करना 644.15 ⇨  
**अपव्ययी**  
 अपव्ययी 644.24 ⇨  
**अपव्याप्ति**  
 अपवृद्धि 979 5  
**अपराकुन**  
 अशुभ शकुन 262 3  
**अपराध**  
 कुपचन 432.1  
 गाली 433.3  
**अपराध कइना**  
 गाली देना 433.6  
**अपराधकन**  
 छिलका उत्तराई 542.5  
**अपरिचय**  
 अनंतिम 995 13  
**अपभी**  
 शोभाहीन 226 12  
**अपसंचय**  
 जमाख़ोरी 865.14  
**अपसंचयी**  
 जमाख़ोरी 865.15  
**अपसंगुन**  
 अशुभ शकुन 262.3  
**अपसर**  
 पीछे हटने वाला 916.24  
**अपसर (उपामिति)**  
 दूरता 32.1

**अपसरण**  
 पलायन 916 1  
 पीछे हटना कर्म 916.6  
**अपसरण करना**  
 पीछे हटना 916.15  
**अपसर्जन**  
 छिस्त्यार्जन 101.9  
 परित्याग 1003 1  
**अपसर्पण**  
 पीछे हटना. कर्म 916.6  
**अपसत्य**  
 दक्षिण पार्श्वीय 997.21  
**अपसार**  
 निर्गम मार्ग 1092.3  
 वाष्प 91 1  
**अपसारक**  
 विकर्षक 1050.31  
**अपसारण**  
 अपनयन 1053.3  
 अपाहरण 862 4  
 विकर्षण 1050.11  
**अपसारित**  
 अपाहृत 862.9  
**अपसृत**  
 अपनीत 1053.13  
 पलायित 916 19  
 युद्ध पलायित 916.23  
 विकर्षित 1050.30  
**अपसृति**  
 पलायन 916.1  
**अपस्कर**  
 गुदा 152 7  
 पहिया इतर गाड़ी भाग 1076 19  
 विच्छा 216.2  
 स्त्री जननेंद्रिय 152.12  
**अपस्तान**  
 मृतक स्नान 253.3  
**अपस्पर्श**  
 घेतनाहृत 264 21  
**अपस्मार**  
 मिरगी 264 7  
**अपस्पृति**  
 विस्मरणशील 357.13  
**-अपह**  
 रोधक 920.22  
**-अपह (जैसे: विनापह)**  
 नाशक 531.8  
 निवारक 920.18  
**अपहत**  
 अपनीत 1053.13  
 निवारित 920.17  
 मारा [पारी] 251.23  
**अपहत्या**  
 अपहत्या 251.8 ⇨  
**अपहन**  
 रोधन 920.5  
**अपहरण**  
 अपहरण 862.1 ⇨

## अपहरण करना

घटान कर्म 954 6  
 चौर्य वृत्ति 864.1  
 छीन 635 7  
 लूट 864.21  
**अपहरण करना**  
 अपहरण करना 862.5 ⇨  
**अपहरण कर्ता**  
 अपहर्ता 862.8  
**अपहरण धन**  
 अपहरण धन 862.2 ⇨  
**अपहर्ता**  
 अपहर्ता 862.8 ⇨  
 घोर 864 3  
 छीनने वाला 635 24  
 लुटेरा 864 22  
**अपहानि**  
 अहित 712 2  
**अपहार**  
 छीन 635 7  
**अपहारक**  
 छीनने वाला 635 24  
**अपहारण**  
 अपाहरण 862.4  
**अपहारित**  
 छीना [छीनी] 635 23  
**अपहारी**  
 घोर 864 3  
 छीनने वाला 635 24  
 लुटेरा 864 22  
**अपहास**  
 उपहास 844 1  
**अपहित**  
 अहित 712.2  
**अपहृत**  
 अपहृत 862.7 ⇨  
**अपहृतज्ञान**  
 घेतनाहृत 264 21  
 घेतनाहृत 264 21  
**अपहृति**  
 घोरि: घटना 864 2  
**अपहेला**  
 अपमान 855 1  
**अपहनव**  
 सत्य अपलाप 821 6  
**अपहनुति**  
 अपलाप 435.10  
 गोपन 824 1  
 सत्य अपलाप 821 6  
**अपह्नोता**  
 अपलापक 821 18  
**अपांग**  
 अशरीरी 139 14  
 कामदेव 773 12  
**अपानाध**  
 विष्णु 768 1  
**अपानिधि**  
 शिव 767 1

**अपांपति**  
 चंद्रमा 8.2  
 वरुण 773.43  
**अपांगुला**  
 पतिव्रता 805 6  
**अपाक**  
 अपक्व 195 78  
**अपाकरण**  
 निरसन 338 9  
**अपाकृत**  
 निरस्त 338 39  
**अपाकृति**  
 निरसन 338 9  
**अपाखंड**  
 पाखंडहीनता 822 12  
**अपाधित**  
 अपरिपाधित 195 66  
**अपाटव**  
 रोगप्रस्तता 162 1  
**अपाठव**  
 अपठनीय 401 12  
**अपात्र**  
 अधिकारहीन 898 3  
 अपात्र 304.7 ⇨  
**अपात्रता**  
 अपात्रता 304.2 ⇨  
**अपाद**  
 लैंगज्ञा 153.19  
**अपादान**  
 अपनयन 1053.3  
**अपादान कारक**  
 अपादान कारक 425.25 ⇨  
**अपान**  
 अपान वायु 245 15  
 गुदा 152.7  
 पंचप्राण सूची 245 3  
**अपान द्वार**  
 गुदा 152 7  
**अपानन**  
 स्वास त्याग 245.6  
**अपान वायु**  
 अपान वायु 245 15 ⇨  
**अपाप**  
 पापहीन 813 9  
 पापहीनता 813 1  
**अपाप**  
 असहाय 701 8  
**अपारंपरिक**  
 अपारंपरिक 795 14 ⇨  
**अपारंपरिकता**  
 अपारंपरिकता 795 3 ⇨  
**अपार**  
 अजेय 519 27  
 अपारगम्य 1097 19  
 असंख्य 944 8  
 असमाप्यता 943 12  
 असीम 1001 34  
 ईश्वर 764 1

**अपारगम्य**  
 अपारगम्य 1097.19 ⇨  
**अपारगम्यता**  
 अपारगम्यता 1097 6 ⇨  
**अपारण**  
 अपारण 329.8 ⇨  
**अपारता**  
 असंख्यता 944 3  
 असमाप्यता 943 4  
 असीमता 1001 3  
**अपारदर्शिता**  
 अपारदर्शिता 282.14 ⇨  
**अपारदर्शी**  
 अपारदर्शी 282 24 ⇨  
**अपारदूर्यता**  
 अपारदर्शिता 282 14  
**अपार ई**  
 नेति 741.26  
**अपारित**  
 अपारित 329.28 ⇨  
**अपार्टमेंट (अँ)**  
 फ्लैट 602 27  
**अपार्टीड (अँ) (पूर्व द.अफ्रीका)**  
 जातीय भेदभाव 884.30  
**अपार्थिव**  
 परलौकिक 258 14  
**अपार्य**  
 अगाध्य 84 10  
 अपारगम्य 1097 19  
 रुद्र 767 34  
**अपार्यता**  
 अपारगम्यता 1097 6  
**अपालक**  
 पालक 189 26  
**अपालतू**  
 अपालतू 127 96 ⇨  
**अपालन**  
 अवज्ञा 348.1  
**अपायन**  
 मलिन 217 6  
**अपायरण**  
 अनावरण 822 10  
**अपावर्त्तन**  
 प्रतिप्रदान 638 3  
 प्रतिप्रेषण 1054 4  
**अपावृत्ति**  
 प्रतिप्रदान 638 3  
**अपाश्रय**  
 निराश्रय 596 30  
**अपाश्रित**  
 आधारित 1019 17  
**अपाहरक**  
 अपाहर्ता 862.10  
**अपाहरण**  
 अपाहरण 862.4 ⇨  
**अपाहर्ता**  
 अपाहर्ता 862 10 ⇨

**अपाहिज**  
 लैंगज्ञा लूला 153 20  
 विकलांग 153.15  
**अपाहिज गाड़ी**  
 अपाहिज गाड़ी 1070.12 ⇨  
**अपाहिजी**  
 विकलांगता 153 2  
**अपाहृत**  
 अपाहृत 862 9 ⇨  
**अपाहृत करना**  
 अपाहृत करना 862 6 ⇨  
**अपिंड**  
 अशरीरी 139 14  
**अपि**  
 और 945 10  
 भी 945 8  
**अपिकंठ**  
 अपिकंठिका 145 7  
**अपिकंठिका**  
 अपिकंठिका 145.7 ⇨  
**अपिच**  
 और भी 945 11  
**अपिज**  
 ईसा 791 8  
**अपितकला**  
 पतिहीनता 804 12  
**अपितु**  
 किंतु -507 16  
 बल्कि 507 18  
**अपितुक**  
 अदायागत 623 28  
 अनानुवशिक 727.40  
 पिताहीन 719 6  
**अपितुकता**  
 अनानुवशिकता 727 18  
**अपित्र्य**  
 अनानुवशिक 727 40  
**अपिधानक**  
 पिधान 675 3  
**अपिधानन**  
 अपिधानन 675 2 ⇨  
**अपिधानित**  
 अपिधानित 675 19 ⇨  
**अपिधानित करना**  
 अपिधानित करना 675.16 ⇨  
**अपिपासा**  
 अतृष्णा 180 6  
**अपिपासु**  
 अतृषित 180 20  
**अपिवानर**  
 बनमानुस 127 91  
**अपिवानर-मानवः बीष विलुप्त प्राणी**  
 अधिवानर 127.90  
**अपीजर्मेट (अँ)**  
 तुष्टीकरण नीति 374.8  
**अपील**  
 अपील 875.13 ⇨

प्रपील (अँ)  
 अपील 875.13  
 क्ररियाद 350.9  
 प्रपील करना  
 क्ररियाद करना 350.14  
 अपीलॉट (अँ)  
 अपीलार्थी 875.14  
 अपीलार्थी  
 अपीलार्थी 875.14 ⇨  
 अपुच्छ वानर  
 बनमानुस 127.91  
 अपुनः  
 अपुनः 72.11 ⇨  
 अपुनरावृत्त  
 अपुनरावृत्त 72.4 ⇨  
 अपुनरावृत्ति  
 अपुनरावृत्ति 72.2 ⇨  
 अपुनर्जन्म  
 मोक्ष 257.1  
 अपुनर्भूत  
 अपुनरावृत्त 72.4  
 अपुरातन  
 अप्राचीन 64.9  
 अपुरातनता  
 अप्राचीनता 64.2  
 अपुरुष  
 नपुंसक 238.18  
 हिजड़ा 238.5  
 अपुरुषता  
 अमानवीयता 734.3  
 अपुरुषार्थी  
 अपरिश्रमी 490.11  
 अपुरुषोद्दिष्ट  
 कापुरुषतापूर्ण 395.28  
 अपुष्कल  
 अल्प 942.13  
 अपुष्कलता  
 अल्पता 942.1  
 अपुष्ट  
 अपोषण ग्रस्त 179.23  
 असंपुष्ट 338.37  
 अपुष्ट समाचार  
 अपुष्ट समाचार 440.5 ⇨  
 अपुष्टि  
 असंपुष्टि 338.8  
 अपुष्टिकरण  
 असंपुष्टिकरण 338.7  
 अपुष्टिकृत  
 असंपुष्ट 338.37  
 अपुष्य  
 पुष्यहीन 115.18  
 अपुष्यित  
 अपुष्यित 118.15 ⇨  
 पुष्यहीन 115.18  
 अपुष्य  
 अशीघ्र (आहार) 198.14  
 उच्छिष्ट 198.11  
 पुत्रहीन 240.10

मलिन 217.6  
 अपुष्यता  
 उच्छिष्टता 198.2  
 अपुष्यता  
 पुत्रहीन 240.10  
 अपुष्य  
 पुआ 203.20  
 अपुष्य  
 असमाप्य 943.12  
 अपुष्य  
 अपर्याप्त 942.17  
 अपुष्यित 118.15  
 अपुष्य रचित 528.8  
 असमाप्त 943.11  
 असमाप्त (कार्य) 523.6  
 आशिक 939.11  
 अपुष्यकाम  
 अपुष्यच्छ 362.5  
 असफल 513.4  
 अपुष्यतः  
 आशिकतः 939.20  
 अपुष्यता  
 अशरता 939.1  
 अपुष्य पठन  
 अपुष्य पठन 321.30 ⇨  
 अपुष्य रचित  
 अपुष्य रचित 528.8 ⇨  
 अपुष्य रस  
 काव्य शास्त्र भाव 358.2  
 अपुष्य संभावना  
 अपुष्य संभावना 68.6 ⇨  
 अपुष्य संभावना: उक्ति सूची  
 अपुष्य संभावना: उक्ति सूची 68.22 ⇨  
 अपुष्यार्ण  
 विकलांग 153.15  
 अपुष्यार्णगता  
 विकलागता 153.2  
 अपुष्यार्ण  
 आशिक 939.11  
 अपुष्यार्णता  
 अशरता 939.1  
 अपुष्यार्णशिक  
 आशिक 939.11  
 अपुष्यार्णच्छ  
 अपुष्यार्णच्छ 362.5 ⇨  
 अपुष्यार्ण  
 इच्छा अपूर्ति 362.1  
 अपुष्य  
 अभूतपूर्व 312.18  
 कर्मफल 504.10  
 नवीन 64.10  
 अपुष्यकालीन  
 अप्राचीन 64.9  
 अपुष्यतः  
 अभूतपूर्वतः 312.21  
 अपुष्यतया  
 अभूतपूर्वतः 312.21

अपूर्वता  
 अभूतपूर्वता 312.5  
 अपुष्यक  
 सटा [सटी] 31.8  
 अपुष्यकता  
 सटापन 31.2  
 अपेक्ष  
 अपेक्षित 359.24  
 आधारित 1019.17  
 अपेक्षक  
 अपेक्षा कर्ता 359.26  
 अपेक्षणीय  
 अपेक्षणीय 359.25 ⇨  
 अपेक्षया  
 तुलना मे 309.23  
 अपेक्षा  
 अपेक्षा 359.3 ⇨  
 अर्हता 303.3  
 आदर 854.1  
 आवश्यकता 524.7  
 कारण कार्य भाव 507.1 ⇨  
 तुलना 309.1  
 प्रत्याशा 375.5  
 अपेक्षा करना  
 अपेक्षा करना 359.12 ⇨  
 अपेक्षा कर्ता  
 अपेक्षा कर्ता 359.26 ⇨  
 अपेक्षाकृत  
 तुलनात्मक 309.16  
 तुलना में 309.23  
 सापेक्ष 309.18  
 अपेक्षाकृततः  
 सापेक्षतः 309.24  
 अपेक्षाकृत नया  
 निकट भूत कालीन 36.19  
 अपेक्षा न करना  
 अपेक्षा न करना 360.7 ⇨  
 अपेक्षापूर्ण  
 प्रतीक्षापूर्ण 1057.8  
 अपेक्षा रखना  
 अपेक्षा करना 359.12  
 अपेक्षित  
 अपेक्षित 359.24 ⇨  
 आवश्यक 524.20  
 प्रतीक्षित 1057.7  
 प्रत्याशित 375.9  
 अपेक्षिततः  
 प्रत्याशिततः 941.12  
 अपेक्षितता  
 कर्मफल 504.10  
 प्रत्याशितता 375.6  
 अपेक्षित होना  
 अपेक्षित होना 359.11 ⇨  
 अपेक्षी  
 अपेक्षा कर्ता 359.26  
 इच्छुक 359.21  
 प्रतीक्षक 1057.10  
 अपेक्ष्य  
 अपेक्षणीय 359.25

अपेत  
 पलायित 916.19  
 प्रवृत्त 835.25  
 मोक्षगत 257.7  
 अपैठ  
 अप्रवेश्य 519.24  
 अपैठक  
 अदायागत 623.28  
 अनानुवंशिक 127.40  
 पिताहीन 719.6  
 अपैठकता  
 अनानुवंशिकता 727.18  
 अपैठकता  
 अदायागतता 623.20  
 अपोजीशन (अँ)  
 विरोध 886.4  
 अपोजीशन (अँ)  
 विरोध पक्ष 886.3  
 अपोत्पन्नक  
 उक्ताने वाला 499.13  
 अपोत्पन्नता  
 उक्तसाया 499.4  
 अपोत्पन्नित  
 उक्तसाया [उक्तसाई] 499.12  
 अपोत्पन्नह  
 उक्तसाया 499.4  
 अपोषण  
 अपोषण 179.3 ⇨  
 अपोषण ग्रस्त  
 अपोषण ग्रस्त 179.23 ⇨  
 अपोषित  
 अपोषण ग्रस्त 179.23  
 अपोषित (अँ)  
 ईसाई धर्म प्रचारक 744.32  
 ईसा संदेश वाहक 791.12  
 अपोष  
 वितर्क 325.4  
 अपोहन  
 आपत्ति निवारण 328.6  
 अपोराणिक  
 अपारंपरिक 795.14  
 अप्राचीन 64.9  
 अपोराणिकता  
 अपारंपरिकता 795.3  
 अप्राचीनता 64.2  
 अपोरुष  
 ईश्वरीय 764.35  
 कापुरुषता 395.12  
 कापुरुषतापूर्ण 395.28  
 अपोरुषेय  
 आध्यात्मिक 761.24  
 ईश्वर कृत 764.36  
 ईश्वरीय 764.35  
 कापुरुषता 395.12  
 कापुरुषतापूर्ण 395.28  
 परलौकिक 258.14  
 मानव अरहित 528.9

## अपीरुषेयता

### अपीरुषेयता

मानव अरथितता 528.3  
**अपीरुषेय धर्मग्रंथ**  
 अपीरुषेय धर्मग्रंथ 738.3 ⇨  
**अप्यति**  
 वरुण 773 43  
**अप्रकट**  
 अनभिव्यक्त 429.19  
 गुप्त 824 20  
 निराकार 967 13  
**अप्रकट (रहस्य)**  
 रक्षित (रहस्य) 823 14  
**अप्रकटन**  
 अनभिव्यक्ति 429 1  
 रहस्य रक्षा 823 8  
**अप्रकटव्य**  
 गोपनीय 824 21  
**अप्रकटव्यता**  
 गोपनीयता 824 3  
**अप्रकांड**  
 शाखाहीन 114 16  
**अप्रकाश**  
 अधिकार 286 1  
**अप्रकाशन**  
 अनभिव्यक्ति 429 1  
 रहस्य रक्षा 823.8  
**अप्रकाशित**  
 अंधकारपूर्ण 286 14  
 अनभिव्यक्त 429.19  
 कुदृश्य 282.21  
 रक्षित (रहस्य) 823 14  
**अप्रकृत**  
 मानव रथित 527 19  
**अप्रकृति**  
 आत्मा 763 1  
 पुरुष 764 21  
**अप्रखर**  
 कुंठित 270 24  
 कोमल 269 18  
 स्फूर्तिहीन 492 14  
**अप्रखरता**  
 कुंठितता 270 10  
**अप्रगति**  
 गतिरोध 1047.2  
**अप्रगल्भ**  
 अनुभवहीन सरल 817.9  
 अवयस्क 229.22  
 विनम्र 733 19  
**अप्रगल्भतः**  
 विनम्रता 733 23  
**अप्रगल्भता**  
 लज्जारीलता 845.2  
**अप्रगाढ**  
 अप्रगाढ 80.8 ⇨  
**अप्रचलन**  
 अप्रचलन 515 4 ⇨  
**अप्रचलित**  
 अप्रचलित 515 10 ⇨

### अप्रचुर

अल्प 942 13  
**अप्रचुरता**  
 अल्पता 942 1  
 असमृद्धि 627.1  
**अप्रचेतित**  
 अविचारित 330 24  
**अप्रच्छन्न**  
 अनावृत 822 29  
 उद्घाटित (रहस्य) 822.25  
**अप्रच्छन्नता**  
 प्रकटता 822 8  
**अप्रच्छिन्नता**  
 अविभाजन 698.5  
**अप्रजन**  
 निस्सतान 240 9  
 यंध्य 238.15  
**अप्रजनन**  
 अजनन 240 6  
**अप्रजनित अंडा**  
 निरामिष अंडा 206 3  
**अप्रणेता**  
 अरथेता 528.7  
**अप्रतिकार**  
 क्षमा 872.1  
**अप्रतिकारपूर्ण**  
 सहिष्णु 872 16  
**अप्रतिकारी**  
 सहिष्णु 872.16  
**अप्रतिकूलता**  
 विरोधहीनता 887.4  
**अप्रतिघात**  
 क्षमा 872.1  
 विरोधहीन 887.13  
**अप्रतिपक्ष**  
 विरोधहीन 887.13  
**अप्रतिपत्ति**  
 उद्दिग्धता 377.4  
**अप्रतिपन्न**  
 अनिर्धारित 328.15  
**अप्रतिफलता**  
 प्रतिफलहीनता 510.5  
**अप्रतिबंध**  
 अनिषेध 880.2  
 निरंकुश तंत्र 881.22  
**अप्रतिबंधित**  
 अनिषेध 880.13  
 नियंत्रणहीन 900.8  
 निरंकुश 881.40  
**अप्रतिबंधिततः**  
 अनिषेधतः 880.15  
**अप्रतिबद्ध**  
 अनिषेध 880.13  
**अप्रतिभ**  
 उदास 380.14  
 प्रतिभाहीन 302.12  
 लज्जारील 845.11  
 स्फूर्तिहीन 492 14

### अप्रतिम

अनुपम 312.17  
 विलक्षण 312.16  
**अप्रतिमता**  
 अनुपमता 312.4  
**अप्रतिरूप**  
 अनुपम 312.17  
**अप्रतिवर्तन**  
 अपुनरावृत्ति 72.2  
**अप्रतिवीर**  
 अद्वितीय योद्धा 934.16  
**अप्रतिशोध**  
 क्षमा 872.1  
**अप्रतिशोधी**  
 सहिष्णु 872.16  
**अप्रतिष्ठ**  
 अस्थिर 1037.22  
 कुख्यात 848.4  
**अप्रतिष्ठा**  
 अप्रतिष्ठा 850.1 ⇨  
**अप्रतिष्ठित**  
 अप्रतिष्ठित 850.5 ⇨  
**अप्रतिष्ठिता**  
 अस्थिरता 1037.6  
**अप्रतिष्ठित वेश्या**  
 सस्ती वेश्या 807 8  
**अप्रतिष्ठित होना**  
 प्रतिकृष्टि हानि होना 850.4  
**अप्रतीक**  
 अशारीरी 139.14  
 ब्रह्म 764 24  
**अप्रतीक्षा**  
 आतुरता 496.3  
**अप्रतीति**  
 अविश्वास 341.1  
**अप्रतुल**  
 अतुलनीय 962.67  
**अप्रत्यक्ष**  
 असमक्ष 1022.6  
 इन्द्रियातीत 306.14  
**अप्रत्यक्ष कर**  
 अप्रत्यक्ष कर 647.5 ⇨  
**अप्रत्यक्ष ज्ञान**  
 परोक्ष ज्ञान 305.6  
**अप्रत्यक्षता**  
 असमक्षता 1022.1  
**अप्रत्यय**  
 अविश्वास 341.1  
**अप्रत्ययित घटना**  
 अप्रत्ययित घटना 75.6 ⇨  
**अप्रत्यावर्तन**  
 अपुनरावृत्ति 72.2  
**अप्रत्यावर्तित**  
 अपुनरावृत्त 72 4  
 आवृत्तिहीन 72 3  
**अप्रत्याशा**  
 अनपेक्षा 360.2  
 अप्रत्याशा 376.3 ⇨

### अप्रत्याशित

अनपेक्षित 380.13  
 अप्रत्याशित 376.7 ⇨  
 आकस्मिक 69.10  
 प्रत्याशातीत 944.9  
**अप्रत्याशित घटना**  
 अप्रत्याशित घटना 75.6  
**अप्रत्याशिततः**  
 अकस्मात् 69.13  
 अप्रत्याशिततः 376.8 ⇨  
**अप्रत्याशितता**  
 आकस्मिकता 69.4  
**अप्रत्याशित पात**  
 आकस्मिक पात 1031.4  
**अप्रत्याशित राज्य क्रांति**  
 सहसा सत्ता अपहरण 902 6  
**अप्रत्युत्पन्नमति**  
 मंदधी 302.8  
**अप्रथमता**  
 अप्रधानता 853.2  
**अप्रद**  
 अदानी 639.28  
**अप्रदाता**  
 अदानी 639.28  
**अप्रदान**  
 दानहीनता 639.10  
**अप्रधान**  
 अप्रधान 853.9 ⇨  
 अप्रधान तत्त्व  
 अप्रधान तत्त्व 1008.7 ⇨  
**अप्रधानता**  
 अप्रधानता 853.2 ⇨  
**अप्रधान धातु**  
 धात्विद 92 5  
**अप्रधान पत्नी**  
 अप्रधान पत्नी 803.8 ⇨  
**अप्रधान बोल**  
 ताल बोलः अप्रधान बोल 458.32  
**अप्रधान रत्न**  
 अप्रधान रत्न 455.3 ⇨  
**अप्रधान लक्षण**  
 गीण लक्षण 317.7  
**अप्रबंध**  
 अव्यवस्थितता 894.5  
**अप्रबंधित**  
 अव्यवस्थित 894.9  
**अप्रबल**  
 अप्रबल 488.14 ⇨  
 शक्तिहीन 488.10  
**अप्रबलता**  
 अप्रबलता 488.3 ⇨  
**अप्रबल होना**  
 प्रबल न रहना 488.7  
**अप्रभ**  
 धुंधला [धुंधली] 286.17  
**अप्रभाव**  
 प्रभावहीनता 511.4



अप्रभावकारी  
प्रभावहीन 511.18  
अप्रभावशाली  
प्रभावहीन 511.18  
अप्रभावित  
अप्रभावित 511.14 ⇨  
अप्रभावी  
प्रभावहीन 511.18  
अप्रभूत  
अजन्मा 247.7  
अव्यतीत 74.4  
अप्रमत्त  
जागरूक 301.34  
सावधान 497.4  
स्थिरचित्त 355.6  
अप्रमत्तता  
स्थिरचित्तता 355.2  
अप्रमद  
अप्रसन्न 381.10  
अप्रमद [अप्रमदा]  
मनोरंजनहीन 469.14  
अप्रमा  
अवैज्ञानिकता 307.3  
परोक्ष ज्ञान 305.6  
ध्रम दर्शन 342.3  
अप्रमाणिक शिक्षा  
कूट मुद्रा 98.8  
अप्रमाद  
अमदोन्मत्त 211.16  
सावधानी 497.1  
अप्रमादी  
सावधान 497.4  
अप्रमित  
अमापित 958.59  
असीम 1001.34  
अप्रमुख  
अप्रधान 853.9  
अप्रमुख तत्त्व  
अप्रधान तत्त्व 1008.7  
अप्रमुखता  
अप्रधानता 853.2  
अप्रवेद्य  
अज्ञेय 308.13  
अनाप्य 958.60  
असंख्य 944.8  
असीम 1001.34  
विज्ञान विरुद्ध 307.14  
अप्रवेद्यता  
अवैज्ञानिकता 307.3  
अप्रमोद  
अप्रसन्न 381.10  
मनोरंजनहीनता 469.3  
अप्रयत्न  
अप्रयत्न 490.1 ⇨  
अप्रवृत्ति 503.2  
अप्रयत्नतः  
अप्रयत्नतः 490.15 ⇨

अप्रयत्नशील  
अप्रयत्नशील 490.9 ⇨  
अप्रयास  
अप्रयत्नतः 490.15  
अप्रयासी  
अपरिश्रमी 490.11  
अप्रयत्नशील 490.9  
अप्रयुक्त  
अनुपभुक्त 525.6  
अप्रचलित 515.10  
अभुक्त 364.9  
अप्रयुक्त कपड़ा  
कोरा वस्त्र 579.2  
अप्रयोग  
अनुपभोग 525.1  
अप्रयोग्य  
अनुपभोग्य 525.7  
अप्रयोजनता  
प्रयोजनहीनता 509.1  
अप्रयणता  
अप्रवृत्ति 503.2  
अप्रवाह  
निरधलता 1038.2  
अप्रवाहता  
गतिहीनता 1042.3  
अप्रवाहित (जल)  
अप्रवाहित (जल) 21.40 ⇨  
अप्रविष्ट  
अप्रविष्ट 1094.27 ⇨  
अप्रवीण  
अप्रवीण 304.9 ⇨  
अप्रवीणता  
अप्रवीणता 304.4 ⇨  
अप्रवृत्त  
अप्रवृत्त 503.11 ⇨  
प्रवृत्तिहीन 503.10  
मनोरंजनहीन 469.14  
अप्रवृत्तता  
अप्रवृत्तता 503.3 ⇨  
अप्रवृत्ति  
अनासक्ति 386.1  
अप्रवृत्ति 503.2 ⇨  
अप्रवेश  
अप्रवेश 1094.10 ⇨  
अप्रवेश्य  
अप्रवेश्य 519.24 ⇨  
अप्रवेश्यता  
अप्रवेश्यता 519.8 ⇨  
अप्रशस्त  
संकीर्ण 980.29  
अप्रशस्तता  
संकीर्णता 980.11  
अप्रशिक्षित सैनिक  
अप्रशिक्षित सैनिक 934.3 ⇨  
अप्रसंग  
अनासक्ति 386.1  
अनुपयुक्त अवसर 70.4  
अप्रवृत्तता 503.3

अप्रासंगिक 439.6  
संदर्भहीन 439.7  
अप्रसन्न  
अप्रसन्न 381.10 ⇨  
उदास 380.14  
क्रुद्ध 373.28  
रुष्ट 374.17  
अप्रसन्नता  
अतृप्ति 362.2  
अप्रसन्नता 381.3 ⇨  
क्रोध 373.1  
रुष्टि 374.2  
वैमनस्य 706.10  
अप्रसन्नता अभिव्यक्ति  
मतभेद प्रदर्शन 338.5  
अप्रसन्न होना  
अप्रसन्न होना 381.6 ⇨  
अप्रसय  
अजनन 240.6  
अप्रसाव  
अदया 835.1  
अप्रसार  
संकीर्णता 980.11  
अप्रसिद्ध  
अख्यात 848.5  
अप्रसिद्धि  
अख्याति 848.2  
अप्रसू  
बंध्या 238.16  
अप्रसूत [अप्रसूता]  
स्वयं उत्पन्न 546.10  
अप्रसूत  
अनुद्यत 492.18  
अनुपस्थित 1022.7  
उपमान 309.8  
अप्रसूतता  
अनुद्यतता 492.6  
अप्रसूति  
अनुपस्थिति 1022.2  
अप्रस्थता  
जंगमता 1037.2  
अप्रस्थित  
जंगम 1037.18  
अप्रसूटित  
अप्रसूटित 120.12 ⇨  
अप्रसूटित रंग  
अप्रसूटित रंग 289.28 ⇨  
अप्रसृत  
ऊसर 552.3  
कोरा वस्त्र 579.2  
परती 552.6  
अप्रसृत रसायन  
अकार्बनिक रसायन 87.2  
अप्रकृत  
अस्वाभाविक 836.12  
परलौकिक 258.14  
सम्य 733.13

अप्राकृतिक  
अस्वाभाविक 836.12  
मानव रचित 527.19  
अप्राकृतिक जलराशय  
तालाब 18.10  
अप्राकृतिकता  
अस्वाभाविकता 836.6  
मानव रचितता 527.5  
अप्रागैतिहासिक  
अप्राचीन 84.9  
अप्रागैतिहासिकता  
अप्राचीनता 64.2  
अप्राचीन  
अप्राचीन 64.9 ⇨  
अप्राचीनता  
अप्राचीनता 64.2 ⇨  
अप्राण  
अबलिष्ठ 159.12  
अप्राथमिकता  
अप्रधानता 853.2  
अप्रादुर्भाव  
अजन्म 247.2  
अप्रादुर्भूत  
अजन्मा 247.7  
अप्राप्त  
अनुपलब्ध 942.18  
अप्राप्त 639.24 ⇨  
अप्राप्त काल  
समय पूर्व 62.15  
अप्राप्तता  
अनुपलब्धता 942.4  
अप्राप्तभोजन  
अप्राप्तभोजन 181.52 ⇨  
अप्राप्तवार्ता  
अप्राप्तवार्ता 1099.10 ⇨  
अप्राप्त यौवन  
अवयस्क 229.22  
अप्राप्तवय  
अवयस्क 229.22  
अप्राप्तव्य  
अनादेय 639.20  
अनुपलब्ध 942.18  
अप्राप्ति  
अनुपलब्धता 942.4  
अप्राप्ति 639.7 ⇨  
लाभहीनता 649.4  
अप्राप्य  
अनुपलब्ध 942.18  
दुर्लभ 942.19  
नष्ट 531.7  
अप्राप्यता  
अनुपलब्धता 942.4  
अप्राप्य होना  
अप्राप्य होना 639.18 ⇨  
अप्रामाणिक  
अविश्वसनीय 341.6  
तथ्यहीन 821.22  
विज्ञान विरुद्ध 307.14

## अप्रायः

### अप्रायः

अल्पदा 72.10  
अप्रारंभिक  
अप्राचीन 84.9  
अप्रारंभिकता  
अप्राचीनता 64.2  
अप्राचान  
अभोजन 181.5  
व्रत उपवास 748.1  
अप्रासंगिक  
अप्रासंगिक 439.6 ⇨  
अवसर प्रतिकूल 70.15  
अप्रासंगिकता  
अप्रासंगिकता 439.2 ⇨  
अप्रियंवद [अप्रियंवदा]  
अप्रियभाषी 432.11  
अप्रिय  
अनिच्छनीय 380.11  
अप्रिय 370.5 ⇨  
अरोचक 401.10  
कडवा [कडवी] 276.7  
घृणित 370.6  
शत्रु 706.2  
अप्रियता  
अप्रियता 370.1 ⇨  
अप्रियवर्षान  
कुरुप 156.4  
अप्रियवर्षानता  
कुरुपता, 156.2  
अप्रिय बात  
अप्रिय वचन 432.2  
अप्रिय भाषण करना  
अप्रिय भाषण करना 432.7 ⇨  
अप्रियभाषी  
अप्रियभाषी 432.11 ⇨  
अप्रिय वचन  
अप्रिय वचन 432.2 ⇨  
अप्रियवादी [अप्रियवादिनी]  
अप्रियभाषी 432.11  
अप्रिय सत्य  
अप्रिय सत्य 820.8 ⇨  
अप्रिय होना  
अप्रिय होना 370.3 ⇨  
अप्रीति  
वैमनस्य 706.10  
शत्रुता 706.1  
अप्रीतिकर  
अकल्याणकारी 711.9  
अप्रिय 370.5  
अप्रेक्ष्य  
अविचारणीय 330.25  
अप्रेत  
अनिच्छित 360.10  
अप्रेत राजसी  
तुलसी 13.9  
अप्रेय  
अनिच्छनीय 360.11  
अप्रिय 370.5

### अप्रिल

ईसवी मास सूची 43.4  
अप्रिल 1 (प्राचीन यूरोप)  
नव वर्ष सूची 42.19  
अप्रोक्ष  
अनुभवहीन सरल 817.9  
अपक्व 195.78  
अप्रोक्ष [अप्रोक्षा]  
अवयस्क 229.22  
अप्रोक्षी  
अनुभवहीन सरल 817.9  
अप्सरा  
अप्सरा 782.2 ⇨  
गर्भव स्त्री 778.4  
देव योनि सूची 772.37  
सुंदर स्त्री 157.2  
अप्सराधिपति  
कामदेव 773.12  
अप्सरा मछली  
सील 124.9  
अप्सरा: माता  
मुनि 787.17  
अप्सरा सूची  
अप्सरा सूची 782.3 ⇨  
अप्सरा  
इंद्र 773.5  
अप्सरान्नाद  
अप्सरान्नाद 353.16 ⇨  
अप्सरान्नाद (प्र)  
अप्सरान्नाद 353.16  
आक्रान्तिस्तान  
शास्त्र उपमहाद्वीप देश क्षेत्र सूची 27.6  
आक्रयून  
अक्रय 212.2  
आक्रयुनी  
अक्रयुनी 212.12  
अकरना  
अत्याहार करना 182.11  
फूलना 988.8  
अकरा  
अकरा 163.29  
अकरा [अकरा]  
फूला [फूली] 988.13  
आकराताकरा  
उत्सवपूर्णता 56.2  
उद्दिगता 377.4  
हड़बडी 496.5  
अकराव  
फुलाव 988.4  
अकल  
प्रतिफलहीन 510.14  
फलहीन 116.12  
वंध्य 238.15  
अकलित  
अकलित 118.17 ⇨  
प्रतिकलहीन 510.14  
आकवाह  
अपुष्ट समाचार 440.5

### आकरसर

पदाधिकारी 652.4  
शासक 890.5  
आकरसर (बे.)  
प्रधान व्यक्ति 852.4  
आकरसरी  
दल नायकता 852.5  
पदाधिकारिता 652.3  
आकरसाना  
उपन्यास 450.8  
कथा कृति 450.3  
आकरसानानिगार  
कथाकार 448.10  
आकरसोस  
खेद 380.1  
दुःख 391.1  
परघाताप 380.4  
अकारा  
अकारा 163.29 ⇨  
आक्रीम  
अक्रीम 212.2 ⇨  
आक्रीम: क्रिवाम  
घंडू 212.5  
आक्रीम कोकीन  
मदघ्य 212.1  
आक्रीमची  
अक्रीमची 212.12 ⇨  
स्फूर्तिहीन 492.14  
आक्रीम सत  
मारफ़ीन 212.8  
अफुस्त  
अप्रस्फुटित 120.12  
आप्रयुनी  
अक्रीमची 212.12  
आक्रीका  
महाद्वीप सूची 26.5  
आक्रीकी अपिवावर  
गोरिल्ला 127.92  
आक्रीकी गधा  
जेब्रा 127.33  
आक्रीकी सिंह  
बबर शेर 127.52  
अबंधन  
उन्मुक्तता 1015.4  
अबंधु  
मित्रहीन 705.29  
अबंधुत्व  
परजन भावना 725.4  
अब  
अभूतपूर्वतः 312.21  
इस बार में 72.8  
वर्तमान काल 36.13  
वर्तमान में 36.33  
संदर्भतः 437.18  
अब का  
वर्तमान कालीन 36.21  
अब की  
इस बार में 72.8

### अब की बार

इस बार में 72.8  
अब के  
इस बार में 72.8  
अब के उपरांत  
अब के उपरांत 39.17 ⇨  
अब के बाद  
अब के उपरांत 39.17  
अब तक  
अब तक 39.14 ⇨  
अब तक जीवन काल  
वय 229.11  
अब तब होना  
मरणासन्न होना 249.21  
अबतर  
बुरा [बुरी] 314.10  
अबतरी  
विकार 536.1  
अबद्ध  
उन्मुक्त 1015.9  
अबरक  
अभ्रक 283.16  
अबरस  
चितकबरा [चितकबरी] 289.75  
अबरा  
अबरी 415.11  
लिहाफ़: ऊपर का पल्ला 593.12  
अबरी  
अबरी 415.11 ⇨  
अभ्रक 283.16  
लिहाफ़: ऊपर का पल्ला 593.12  
अबरु  
भ्रू 141.11  
अबल  
अरक्षित 909.22  
असैन्य 932.36  
क्षमताहीन 488.15  
अबल [अबला]  
अबलिष्ठ 159.12  
अबलरु  
काला सफ़ेद 289.76  
चितकबरा [चितकबरी] 289.75  
लाल सफ़ेद 289.78  
अबला  
स्त्री 236.3  
अबलिष्ठ  
अबलिष्ठ 159.12 ⇨  
अबलिष्ठता  
अबलिष्ठता 159.3 ⇨  
अबलिष्ठ होना  
शक्ति नाश होना 488.6  
अबल्लो  
अब तक 39.14  
अब से  
अब के उपरांत 39.17  
अबहु  
अब तक 39.14

**अबहुल**  
अल्प 942 13

**अबहुलता**  
अल्पता 942 1  
असमृद्धि 627 1

**अबाध**  
मित्रहीन 705.29

**अबा**  
अंगरखा सूची 585 29  
गाउन 585 48  
लबादा 585.19

**अबाकस**  
अबाकस 950.14 ⇨

**अबाध**  
अनिषिद्धत 880 15  
अवरोधहीन 1049 13  
अविराम 1049 10

**अबाधता**  
अविरामता 1049 1  
तारतम्य 1049 3

**अबाधित**  
अवरोधहीन 1049 13

**अबाधितता**  
अवरोधहीनता 1049 4

**अबाधन**  
रास्त्रहीन 930 7

**अबाधील**  
अबाधील 126 12 ⇨

**अबारबार**  
आवृत्तिहीन 72 3

**अबारबारता**  
अनावृत्ति 72.1

**अबाहु**  
लूला 153 18

**अबीज**  
बीजहीन 112 20

**अबीजा**  
किशमिश 191 5

**अबीर**  
होली रंग 57 34

**अबुधित**  
अविचारित 330.24

**अबुधुषा**  
अक्षुधा 180.2

**अबुद्ध**  
असमाधान्य 335.12

**अबुध्य**  
असमाधान्य 335.12

**अबुध्यता**  
असमाधान्यता 335 4

**अबे तबे करना**  
अपभाषण करना 433.5

**अबे तबे की बोली**  
अपभाषा 433 2

**अबेर**  
दिलंब 495.1

**अबोध**  
अनुभवहीन सरल 817.9

**अबोधगम्य**  
तर्कातीत 306 15

**अबोध्य**  
असमाधान्य 335.12  
तर्कातीत 306 15  
दुर्बोध्य 519.23

**अबोध्यता**  
अबोध्यता 519 7 ⇨  
असमाधान्यता 335 4

**अबोला [अबोली]**  
मीनावलंबी 429 23

**अबोलापन**  
मीन भाव 429.3

**अब्ज**  
अरुण 948 79  
कपूर 274 14  
कमल 14 4  
घट्टमा 8 2  
जलज 88 24  
शख 461 78

**अब्जज**  
ब्रह्मा 766 1

**अब्जद**  
वर्णमाला 410 1

**अब्जनयना**  
कमलनयना 158 17

**अब्जयोनि**  
ब्रह्मा 766 1

**अब्जलोचना**  
कमलनयना 158.17

**अब्जवाहना**  
लक्ष्मी 775 1

**अब्जा**  
लक्ष्मी 775 1

**अब्जाव**  
हंस 126 76

**अब्द**  
वर्ष 42 8  
संवत्सर 42.1

**अब्दकोश**  
अलमनाक 41.3  
ईयर बुक 446 18

**अब्दुल वहाब: मतानुयायी**  
वहाबी 738 7

**अब्धि**  
झील 18 4  
प्राकृतिक जलाशय 18.5  
समुद्र 24 1  
सात: उपमान सूची 948.30

**अब्धिज**  
अब्धिनी कुमार 773.3  
घट्टमा 8.2  
शंख 461.78

**अब्धिजा**  
लक्ष्मी 775.1  
वारुणी 774.84

**अब्धिकेन**  
समंदर ज्ञाग 87.18

**अब्धिरायन**  
विष्णु 768 1

**अब्बा**  
पिता 717.4

**अब्बू**  
पिता 717.4

**अब्ब**  
झंझावात मेघ 55.4  
मेघ 55 1  
वर्षा काल 54.1  
अब्बम (पिता महान ष्ट) (हिब्रू)  
अब्बाहम 791.4  
अब्बाहम  
अब्बाहम 791.4 ⇨

**अर्भग**  
अर्भजनशील 539 9

**अर्भगता**  
अयिरामता 1049 1

**अर्भगुर**  
अनश्वर 37.9

**अर्भगुरता**  
अनश्वरता 37 3

**अर्भजनशील**  
अर्भजनशील 539.9 ⇨

**अर्भजनीय**  
अर्भजनशील 539 9

**अर्भजित**  
अर्भजित 539 13 ⇨

**अर्भक्षण**  
अभोजन 181 5

**अर्भक्ष्य**  
धर्म निषिद्ध (आहार) 198.12

**अर्भजन**  
अर्भजित 539 13  
तारतम्यपूर्ण 1049.12

**अर्भद्र**  
असभ्य 734 14  
भदेस 403.6

**अर्भद्र जन**  
निम्न जन 728.11

**अर्भद्रता**  
असभ्यता 734.1  
घृष्टता 734.8  
भदेसपन 403.3

**अर्भद्र भाषा**  
अपभाषा 433 2

**अर्भय**  
गीठर घास मूल 112.15  
भयहीनता 394.7  
विद्या 318.1  
साहस 394.1

**अर्भय करना**  
भयनाश करना 394.12

**अर्भय कर्ता**  
शुक्राचार्य 789.23

**अर्भयकारी**  
अर्भय दाता 910.11

**अर्भयद**  
अर्भय दाता 910.11

**अर्भय दाता**  
अर्भय दाता 910.11 ⇨

**अर्भय दान**  
अर्भय दान 910.3 ⇨

**अर्भयप्रद**  
अर्भय दाता 910.11

**अर्भयभीत**  
साहसी 394 13

**अर्भय वचन**  
अर्भय दान 910 3  
सांत्वना 393 4

**अर्भय वन**  
अर्भयारण्य 12 9

**अर्भया**  
हउ 281 37

**अर्भयारण्य**  
अर्भयारण्य 12.9 ⇨

**अर्भय**  
अघटन 75.3  
अजन्म 247.2

**अर्भयिष्णु**  
अर्भयिष्णु 67.9 ⇨

**अर्भय्य**  
असुंदर 156.3  
धुंधला [धुंधली] 286.17

**अर्भय्यता**  
असुंदरता 156.1

**अर्भागा [अर्भागि]**  
दुर्भाग्यशाली 260.34

**अर्भागा [अर्भागी]**  
अनाथ 719 5

**अर्भागापन**  
अनाथता 719 1  
दुर्भाग्य 260.18

**अर्भाग्य**  
दुर्भाग्य 260.18

**अर्भाज्य संख्या**  
अर्भाज्य संख्या 949.13 ⇨

**अर्भाजरण**  
माल उतराई 1061.14

**अर्भाज**  
अघटना 75.2  
अनस्तित्व 247.1  
अनुपलब्धता 942.4  
अभावग्रस्तता 627.2  
आवरयकता 524.7  
नाश 531.1  
रहितता 1007 1  
रुच्य अवस्था 79.2

**अर्भावग्रस्त**  
अर्भावग्रस्त 627.17 ⇨

**अर्भावग्रस्तता**  
अर्भावग्रस्तता 627.2 ⇨

**अर्भावना**  
अविचारण 330.8

## अभाववाद

### अभाववाद

हिंदी काव्य सिद्धांत सूची 453.12

### अभावहीन

मध्यविरत 825.8

### अभावहीनता

मध्यविरता 625.4

### अभाववात्मक

रहित 1007.3

### अभावुक

अभावुक 358.30 ⇨

### अभावुकता

अभावुकता 358.18 ⇨

### अभावण

मीन भाव 429.3

### अभावण व्रत

मीन व्रत 429.4

### अभावित

अकथित 429.20

अनभिव्यक्त 429.19

### अभाषित

घेट (घिट) 405.8

### अभिक

व्यभिचारी 806.10

### अभिकथन

अभिव्यक्ति 428.1

### अभिकथित

अभिव्यक्त 428.17

### अभिकन्या

परपोषित पुत्री 720.10

### अभिकरण

दलाल संस्थान 659.4

दलाली 659.1

### अभिकर्ता

कर्मचारी 852.27

कार्यकर्ता 506.9

दलाल 859.2

### अभिकलन

गणना कर्म 950.11

### अभिकलन कर्म

अभिकलन कर्म 953.8 ⇨

### अभिकलन यंत्र

कंप्यूटर 951.1

### अभिकल्पित

कंप्यूटर 951.1

### अभिकल्प

डिजाइन 404.14

### अभिकल्पक

परिकल्पक 520.19

### अभिकल्पना

परिकल्पना 520.5

### अभिकल्पित

परिकल्पित 520.18

### अभिकल्प

इच्छुक 359.21

### अभिकेंद्र

केंद्राभिमुख 1023.11

### अभिकेंद्र बल

अभिकेंद्र बल 1050.2 ⇨

### अभिकेंद्रीय

केंद्राभिमुख 1023.11

### अभिकेंद्र

आर्तनाद 386.3

### अभिक्रमण

समकक्ष आगमन 1095.3

### अभिक्रांत

आक्रांत 914.18

### अभिक्रामक

समकक्ष आगंतुक 1095.18

### अभिक्राणित

समकक्ष आगत 1095.17

### अभिक्रिया

कुटा मोचन 352.12

### अभिक्रोश

अति क्रोध 373.2

अपभावण 433.1

### अभिरांडन

निरसन 338.9

### अभिरांडित

निरस्त 338.39

### अभिराजन

खनन 1018.1

### अभिराग

रति संयोग 237.10

### अभिरागमन

निकट आगमन 1093.4

### अभिरागोपना

संरक्षक 908.26

### अभिराह

आधिपत्य 899.8

छीन 635.7

### अभिराहण

अंतर्ग्रहण 1002.5

बंदीकरण 868.1

### अभिराहण कर्ता

अंतर्ग्राही 1002.28

### अभिराहणित

अंतर्ग्रहीत 1002.27

आदत्त 637.8

प्रभत 835.22

### अभिराहणिता

आदाता 837.7

### अभिराहणी

अंतर्ग्राही 1002.28

### अभिराह

परिचारक 851.28

सेवक 851.25

### अभिराहार

अपकारक जादू 474.7

अभिमंत्रण 758.8

तंत्र क्रिया 758.3

मारण 768.18

वरीकरण 758.22

### अभिराहारक

अभिमंत्रण कर्ता 758.7

जादूगर 474.11

तंत्र साधक 758.4

वरीकरण कर्ता 758.23

### अभिराहारिका

जादूगरनी 474.12

### अभिराहारी

अभिमंत्रण कर्ता 758.7

### अभिराजन

उच्च कुलीनता 728.3

गृहपति 235.5

पूर्वज 727.20

संगी 696.2

स्वजन 725.1

### अभिराजात

उच्च कुल 728.2

उच्च कुलीन 728.15

उत्तम 313.13

### अभिराजात बर्ग

धनाढ्य जन 626.4

### अभिराजात्य

उच्च कुलीनता 728.3

### अभिराजित

जयी 912.15

मध्याह्न 47.9

विष्णु 768.1

### अभिराजित यज्ञ

यज्ञ सूची 753.2

### अभिराज्ञ

ज्ञानी 305.30

परिज्ञाता 305.33

### अभिराज्ञता

अभिराज्ञता 305.14 ⇨

### अभिराज्ञ मन

चेतन मन 352.2

### अभिराज्ञा

स्मृति लाभ 356.10

### अभिराज्ञात

अभिराज्ञता 356.28 ⇨

पुनः स्मृत 356.26

### अभिराज्ञान

अभिराज्ञान 356.11 ⇨

मुद्रांक 414.17

### अभिराज्ञान करना

अभिराज्ञान करना 356.16 ⇨

### अभिराज्ञान पत्र

परिचय स्थापना पत्र 704.6

### अभिराज्ञापन

संज्ञापन 441.7

### अभिराज्ञेय

घंदा 665.1

### अभिराज्ञम्ब

त्रिपिटकः भाग सूची 740.4

### अभिराधा

शब्द 423.1

शब्द शक्ति सूची 426.3

### अभिराधा क्रिया

अभिराधा क्रिया 399.13 ⇨

### अभिराधात्मक

अभिराधात्मक 426.29 ⇨

### अभिराधान

नाम 315.2

नामकरण 315.9

परिभाषा 317.1

शब्द 423.1

### अभिराधान कोश

शब्दकोश 446.12

### अभिराधान कोश संशोधन

श्रीसठ कला सूची 397.4

### अभिराधायक

अर्थ द्योतक 427.23

### अभिराधारी

आधिपत्यधारी 899.9

### अभिराधार्थ

अभिराधार्थ 426.4 ⇨

### अभिराधुति

अधिग्रहण 635.1

### अभिराधेय

अर्थ 426.1

कथनीय 430.17

प्रतिपाद्य 326.15

### अभिराधेय अर्थ

अभिराधार्थ 426.4

### अभिराधेयक

अभिराधेय कर्ता 854.22

अभिराधेयक 1060.28

आनंदप्रद 382.18

स्वागत कर्ता 1059.27

### अभिराधेयक [अभिराधेयिका]

पूजक 751.3

### अभिराधेयन

अभिराधेयन 854.8 ⇨

अभिराधेयन 1060.1

पूजन 751.2

बधाई 841.22

स्वागत 1059.1

स्वागत समारोह 1059.2

### अभिराधेयन करना

स्वागत करना 1059.23

### अभिराधेयन कर्ता

अभिराधेयन कर्ता 854.22 ⇨

पूजक 751.3

### अभिराधेयन ग्रंथ

अभिराधेयन ग्रंथ 854.9 ⇨

### अभिराधेयन नाम

तीर्थकर सूची 792.2

### अभिराधेयन पत्र

अभिराधेयन पत्र 854.10 ⇨

प्रशंसा पत्र 841.9

अभिराधेयन समारोह 854.11 ⇨

स्वागत समारोह 1059.2

### अभिराधेयना

पूजा 751.1

प्रशंसा 841.1

### अभिराधेयनीय

पूजनीय 751.24

सामान्य 854.20

**अभिनिवृत्त**

अभिनिवृत्त 854.21 ⇨  
 अभिवादिता 1060.27  
 पूजित 751.23  
 प्रशंसित 841.29  
**अभिनिंदी**  
 अभिनंदन कर्ता 854.22  
**अभिनिन्द्या**  
 सम्मान्य 854.20  
**अभिनिन्द**  
 अयनमित 1025.8  
**अभिनिन्दता**  
 अयनमितता 1025.4  
**अभिनिन्दित**  
 अयनमन 1025.3  
**अभिनिन्दय**  
 अंग मुद्रा 464.33  
 अनुभाव 358.6  
 अभिनय 464.2 ⇨  
 अभिनय यावसाय 464.3  
 नृत्य नाट्य 462.2  
 भाव अभिव्यक्ति 358.10  
 मध नाटक 463.1  
**अभिनिन्दयः अलंकार**  
 अभिनयः अलंकार 464.28 ⇨  
**अभिनिन्दयः अलंकार सूची**  
 अभिनयः अलंकार सूची 464.29 ⇨  
**अभिनिन्दय करना**  
 मंचित करना 468.32  
**अभिनिन्दय कर्मी**  
 अभिनेता 464.5  
**अभिनिन्दय कला**  
 कला सूची 397.12  
**अभिनिन्दय गति**  
 अभिनय गति 464.22 ⇨  
**अभिनिन्दयन**  
 मंचन 468.1  
**अभिनिन्दय मुद्रा**  
 अभिनय मुद्रा 464.30 ⇨  
**अभिनिन्दय वेश**  
 नाट्य वेश 464.38  
**अभिनिन्दय व्यवसाय**  
 अभिनय व्यवसाय 464.3 ⇨  
**अभिनिन्दय स्थल**  
 रंगमंच 471.14  
**अभिनिन्दय स्थिति**  
 करण 484.21  
**अभिनिन्दय**  
 अपूर्तपूर्व 312.18  
 आधुनिक 84.7  
 आविष्कृत 307.17  
 नव रचित 527.17  
 नववत् 532.22  
 नवीन 84.10  
 नवीनतम 84.11  
 नवीनतमता 84.4  
 नवीनता 84.3

**अभिनिवेश**

रचना कर्म 527.1  
**अभिनिहन**  
 ऑख पट्टी 555.25  
**अभिनिवृत्ति**  
 रसानुभूति 455.4  
**अभिनिवृत्ति**  
 निवृत्ति 503.1  
**अभिनिवेश**  
 अध्यवसाय 489.4  
 लगन 493.4  
 संकल्प 500.1  
**अभिनिवेश क्लेश**  
 पंच क्लेश सूची 761.17  
**अभिनिष्क्रम**  
 निर्गम 1092.1  
**अभिनिष्क्रमण**  
 गमन 1091.1  
 निर्गमन 1092.2  
 दानप्रस्थाश्रम प्रवेश 233.5  
**अभिनिष्पत्ति**  
 कार्य समाप्ति 522.1  
 रसानुभूति 455.4  
**अभिनिष्पन्न**  
 कार्यान्वित 505.27  
 समाप्त (कार्य) 522.4  
**अभिनीय**  
 मंचित 468.34  
**अभिनेतव्य**  
 मंचनीय 468.35  
**अभिनेता**  
 अभिनेता 464.5 ⇨  
 शिव 767.1  
**अभिनेत्री**  
 अभिनेत्री 464.6 ⇨  
**अभिनेय**  
 मंचनीय 468.35  
**अभिन्न**  
 अद्वैत ईश्वर 764.6  
 अनेतर 945.6  
 एकाकार 967.14  
 घनिष्ठ 704.27  
 समान 309.22  
**अभिन्न काल**  
 समकाल 59.1  
**अभिन्नता**  
 अनेतरता 945.3  
 ईश्वरः अद्वैतता 764.5  
 एकाकारता 967.3  
 घनिष्ठता 704.13  
 समानता 309.5  
**अभिन्न मित्र**  
 घनिष्ठ मित्र 704.14  
**अभिन्नव्ययता**  
 घनिष्ठता 704.13  
**अभिपिता**  
 अभिपिता 720.12 ⇨

**अभिपुत्र**

अभिपुत्र 720.15 ⇨  
**अभिपुत्री**  
 अभिपुत्री 720.16 ⇨  
 परपोषित पुत्री 720.10  
**अभिप्राणन**  
 श्वास त्याग 245.6  
**अभिप्राय**  
 अतर्निहित अर्थ 426.8  
 अर्थ 426.1  
 इच्छा 359.1  
 प्रयोजन 508.1  
**अभिप्रायतः**  
 प्रयोजनतः 508.11  
**अभिप्रेत**  
 इच्छित 359.19  
 उद्दिष्ट 508.8  
 प्रिय 369.7  
**अभिप्रेय**  
 रोचक 400.12  
 स्वीकार्य 337.17  
**अभिप्लव**  
 बाढ़ 22.1  
**अभिभायक**  
 अभिपिता 720.12  
**अभिभावक कर्म**  
 अभिभावक कर्म 720.11 ⇨  
**अभिभायकहीन**  
 अभिभावकहीन 719.9 ⇨  
**अभिभायकहीनता**  
 अभिभावकहीनता 719.4 ⇨  
**अभिभाविका**  
 अभिमाता 720.13  
**अभिभावित**  
 अभिभावित 720.26 ⇨  
**अभिभावी**  
 अभिपिता 720.12  
**अभिभाषण**  
 भाषण 430.8  
**अभिभूत**  
 आक्रांत 914.18  
 उत्पीडित 391.28  
 गहन प्रभावित 511.15  
 दमित 911.14  
 पराजित 913.5  
 वशाधीन 901.9  
**अभिभूत करना**  
 गहन प्रभाव छोड़ना 511.12  
**अभिभूतकर्ता**  
 गहन प्रभावी 511.18  
**अभिभूतता**  
 तल्लीनता 331.6  
**अभिभूति**  
 गहन प्रभाव 511.6  
 पराजय 913.1  
**अभिभंजन**  
 मंचन 488.1

**अभिभंजित**

मंचित 468.34  
**अभिभंजन**  
 अनुसमर्थन 329.3  
 मंडन 326.2  
 शृंगार 222.1  
**अभिभंजित**  
 शोभायुक्त 226.11  
**अभिभंजन**  
 अभिमंत्रण 758.6 ⇨  
 मंत्रावाहन 1055.2  
**अभिभंजन करना**  
 अभिमंत्रण करना 758.33 ⇨  
**अभिभंजन कर्ता**  
 अभिमंत्रण कर्ता 758.7 ⇨  
**अभिभंजन काट**  
 मंत्र नाराण 758.8  
**अभिभंजित**  
 अभिमंत्रित 758.40 ⇨  
 मंत्रावाहित 1055.13  
**अभिभंजित करना**  
 अभिमंत्रण करना 758.33  
**अभिभंजित जल छिड़कना**  
 स्नानाभिषेक करना 221.23  
**अभिमत**  
 अनुमति प्राप्त 337.23  
 इच्छित 359.19  
 कला समीक्षा 398.3  
 मत 343.1  
 मान्य 849.20  
 स्वीकृत 337.16  
**अभिमतहीन**  
 मतहीन 344.11  
**अभिमति**  
 अनुमति 337.5  
 स्वीकृति 337.1  
**अभिमन्यु**  
 अभिमन्यु 771.35 ⇨  
 अभिमानी 858.10  
**अभिमन्युः पत्नी**  
 उत्तरा 771.43  
**अभिमन्युः पौत्र**  
 जनमेजय 771.55  
**अभिमन्यु वध कर्ता**  
 जयद्रथ 771.56  
**अभिमाता**  
 अभिमाता 720.13 ⇨  
**अभिमाद**  
 मद 211.1  
**अभिमान**  
 अभिमान 858.1 ⇨  
**अभिमान करना**  
 अभिमानित होना 858.7  
**अभिमान गति**  
 अभिमान गति 1084.2 ⇨  
**अभिमान त्यागना**  
 अभिमान त्यागना 858.5 ⇨

## अभिमान न करना

### अभिमान न करना

अभिमान न होना 859.4

### अभिमान न होना

अभिमान न होना 859.4 ⇨

### अभिमानपूर्ण होना

अभिमानित होना 858.7

### अभिमानपूर्वक

अभिमानपूर्वक 858.14 ⇨

### अभिमान प्रदर्शन करना

अभिमान प्रदर्शन करना 858.8 ⇨

### अभिमान भंग

अभिमान भंग 911.3 ⇨

### अभिमान भर्त्सक

अभिमान भर्त्सक 911.13 ⇨

### अभिमान भर्त्सन

अभिमान भर्त्सन 911.2 ⇨

### अभिमान भर्त्सित

अभिमान भर्त्सित 911.12 ⇨

### अभिमान भर्त्सित होना

अभिमान भर्त्सित होना 911.7 ⇨

### अभिमान से

अभिमानपूर्वक 858.14

### अभिमान से चलना

अभिमान से चलना 1084.28 ⇨

### अभिमानहीन

अभिमानहीन 859.6

### अभिमानहीनता

अभिमानहीनता 859.1

### अभिमानित होना

अभिमानित होना 858.7 ⇨

### अभिमानिनी

रूप अभिमानिनी 880.22

### अभिमानिनी

अभिमानिनी 858.10 ⇨

### अभिमानिनी [अभिमानिनी]

अभिमानिनी 858.10

### अभिमानिनी होना

अभिमानित होना 858.7

### अभिमुख

अभिमुख 1023.9 ⇨

उद्यत 491.15

प्रवृत्त 502.10

### अभिमुखता:

अभिमुखता 1023.15 ⇨

### अभिमुखता

अभिमुखता 1023.1 ⇨

### अभिमुख होना

अभिमुख होना 1023.5 ⇨

### अभियांत्रिक

अभियांत्रिक 558.15 ⇨

मरम्मत कर्मी 538.9

### अभियांत्रिकी

अभियांत्रिकी 558.14 ⇨

### अभियाचना

प्रार्थना 350.4

### अभियाचता

अभियान कर्ता 907.48

### अभियात्रा

अभियान 907.24

खोज यात्रा 336.7

### अभियान

अभियान 907.24 ⇨

आक्रमण 914.3

खोज यात्रा 336.7

साहसिक यात्रा 1087.4

### अभियान करना

अभियान पर जाना 907.39

### अभियान कर्ता

अभियान कर्ता 907.48 ⇨

### अभियान दल

खोज दल 336.9

### अभियान पर जाना

अभियान पर जाना 907.39 ⇨

### अभियानी

अभियान कर्ता 907.48

खोज यात्री 336.8

### अभियुक्त

अभियुक्त 875.4 ⇨

### अभियुग्य

सात मरुत सूची 781.4

### अभियोक्ता

अभियोक्ता 875.5 ⇨

आरोप कर्ता 875.9

### अभियोग

अभियोग 875.3 ⇨

आरोप 875.7

आरोप 875.7

शिकायत 843.12

### अभियोग कर्ता

आरोप कर्ता 875.9

### अभियोग पत्र

आरोप पत्र 875.8

वाद पत्र 875.2

### अभियोग परीक्षा

मुद्रदमा सुनवाई 876.1

### अभियोग लगाना

अभियोग लगाना 875.20 ⇨

आरोप लगाना 875.22

### अभियोगी

आरोप कर्ता 875.9

### अभियोजक

अभियोक्ता 875.5

### अभिरक्षक

अभिपिता 720.12

पहरेदार 908.9

### अभिरक्षण

अभिभावक कर्म 720.11

### अभिरक्षित

अभिभावित 720.26

सुरक्षित 908.27

### अभिरक्षिता

अभिपुत्री 720.16

### अभिरत

प्रवृत्त 502.10

प्रसन्न 381.7

### अभिरतता

व्यस्तता 502.4

### अभिरति

अभ्यास 303.5

आसक्ति 365.1

प्रेम 368.1

संतोष 360.5

### अभिरमण

विलास 363.6

### अभिराम

शिव 767.1

सम्मोहनपूर्ण 367.7

सुंदर 157.7

सुखद 390.11

### अभिरामता

सुंदरता 157.1

### अभिरामी

आनंदशील 382.19

### अभिरुधि

अभिरुधि 400.2 ⇨

होबी 469.8

### अभिरुधि होना

अभिरुधि होना 400.9 ⇨

### अभिरूप

विष्णु 768.1

समान 309.22

सुंदर 157.7

### अभिलक्षण

लक्षण 317.5

### अभिलक्षित

लक्षणयुक्त 317.22

### अभिलषित

इच्छित 359.19

### अभिलाप

कथन 430.1

### अभिलाय

घास कटाई 556.11

फसल कटाई 548.18

अभिलाषक [अभिलाषिका]

इच्छुक 359.21

### अभिलाषणीय

इच्छनीय 359.20

### अभिलाषा

इच्छा 359.1

महत्त्वाकांक्षा 508.3

### अभिलाषापूर्ण

इच्छापूर्ण 359.18

### अभिलाषाहीन

अमहत्त्वाकांक्षी 508.10

### अभिलाषाहीनता:

इच्छाहीनता: 360.21

### अभिलाषाहीनता

अमहत्त्वाकांक्षा 508.4

### अभिलाषी [अभिलाषिणी]

इच्छुक 359.21

### अभिलाष्य

इच्छनीय 359.20

### अभिलिखित

उत्कीर्ण 406.41

लेखांकृत 632.39

### अभिलिखितता

लिपिबद्धता 412.3

### अभिलेख

अभिलेख 412.18 ⇨

दस्तावेज़ 412.19

पुरालेख 77.7

लेख 449.17

लेखा पुस्तक 632.8

### अभिलेखक

लेखापाल 632.32

### अभिलेखन

दस्तावेज़ लेखन 412.23

लेखाकरण 632.30

### अभिलेख पंजी

लेखा पुस्तक 632.8

### अभिलेख पाल

अभिलेख पाल 669.11 ⇨

### अभिलेखागार

अभिलेखागार 669.10 ⇨

### अभिलेखाध्यक्ष

अभिलेख पाल 669.11

### अभिव्यधित

छलित 827.23

### अभिव्यदक

अभियादक 1060.28

### अभिव्यदन

अभिनंदन 854.8

अभिवादन 1060.1

पूजन 751.2

प्रशंसन 841.4

### अभिव्यदना

नमस्कार 1060.12

प्रशंसा 841.1

स्तोत्र 741.16

### अभिव्यधित

अभिव्यधित 854.21

अभियादित 1060.27

### अभिवक्त

अध्यापक 323.8

कथन कर्ता 430.18

कथा उद्घोषक 467.3

घोषक 441.23

प्रतिनिधि 888.26

प्रतिपादक 326.16

प्रवक्ता 441.25

प्रशंसक 841.31

भाषण दाता 430.23

मंडन कर्ता 326.17

लेक्चरर 323.18

वकील 874.26

संबोधन कर्ता 430.26

सभा संचालक 694.20

### अभिवक्ता गण

अभिवक्ता गण 467.4 ⇨

<b>अभिवर्धक</b> बृहत्कर्ता 979.16	<b>अभिव्यक्त</b> अभिव्यक्त 428.17 ⇨ उपपन्न 328.10 कथित 430.16 संज्ञापित 441.19	<b>अभिव्यक्त भोज</b> कम्पुनियन 751.20	पराजित 913.5
<b>अभिवर्धन</b> बृहदीकरण 979.2	<b>अभिव्यक्त करणा</b> अभिव्यक्ति करणा 428.9	<b>अभिव्यक्त करणा</b> स्नानाभिव्यक्त करणा 221.23	<b>अभिहित</b> गुणन कर्म 955.1 गुणन फल 955.4 लक्ष्य वेध 931.10
<b>अभियाद्यक</b> अभिव्यक्ति कर्ता 428.18	<b>अभिव्यक्ति न करणा</b> अभिव्यक्ति न करणा 429.11	<b>अभिसंतान</b> अभिसंतान 720.14 ⇨	<b>अभिहरण</b> दीर्य वृत्ति 864.1
<b>अभिवाचन</b> कथन 430.1 वाद पत्र 875.2	<b>अभिव्यक्ति</b> अनुभाय 358.6 अभिव्यक्ति 428.1 ⇨ कथन 430.1 कुठा मोहन 352.12 भाव अभिव्यक्ति 358.10 रसानुभूति 455.4	<b>अभिसंधान</b> रोग निदान 171.2 लक्ष्य 931.1	<b>अभिहव</b> बलि कर्म 754.1 यज्ञ 753.1
<b>अभियाधित</b> अभिव्यक्त 428.17	<b>अभिव्यक्ति इच्छा</b> अभिव्यक्ति इच्छा 428.2 ⇨	<b>अभिसंधान</b> रोग निदान 171.2 लक्ष्य 931.1	<b>अभिहवन</b> यजन 753.3
<b>अभियादक</b> अभियादक 1060.28 ⇨	<b>अभिव्यक्ति इच्छुक</b> अभिव्यक्ति इच्छुक 428.19 ⇨	<b>अभिसंधि</b> लक्ष्य 931.1 यघन 339.15 बडयत्र 827.8 संधि 906.5	<b>अभिहार</b> आक्रमण 914.3 शस्त्र धारण 930.1 शस्त्रीकरण 907.7
<b>अभियादक [अभियादिका]</b> पूजक 751.3	<b>अभिव्यक्ति करणा</b> अभिव्यक्ति करणा 428.9 ⇨	<b>अभिसम्मत</b> अनुमति प्राप्त 337.23	<b>अभिहारी</b> उकेत 864.20
<b>अभियादन</b> अभियादन 1060.1 ⇨ स्वागत 1059.1	<b>अभिव्यक्ति कर्ता</b> अभिव्यक्ति कर्ता 428.18 ⇨	<b>अभिसर्ग</b> रचना कर्म 527.1 सृष्टि रचना 529.1	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभियादन उत्तर</b> अभियादन उत्तर 1060.22 ⇨	<b>अभिव्यक्ति न करणा</b> अभिव्यक्ति न करणा 429.11 ⇨	<b>अभिसय</b> मद्य आसवन 82.2	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभियादन करणा</b> अभियादन करणा 1060.26 ⇨ स्वागत करणा 1059.23	<b>अभिव्यक्ति निषेध</b> वाक् प्रतिबध 429.9	<b>अभिसार</b> अभिसार 237.1 ⇨ अभिसार स्थल 237.2	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभियादन कर्ता</b> अभियादक 1060.28	<b>अभिव्यक्ति पूर्ण</b> अभिव्यक्तिपूर्ण 428.16 ⇨	<b>अभिसार (दे.)</b> प्रिय सयोग 389.3	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभियादन स्वीकृति</b> अभियादन स्वीकृति 1060.21 ⇨	<b>अभिव्यक्ति प्रतिबंध</b> वाक् प्रतिबध 429.9	<b>अभिसार स्थल</b> अभिसार स्थल 237.2 ⇨	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभियादायिता</b> अभियादक 1060.28	<b>अभिव्यक्तियाद</b> हिंदी काव्य सिद्धात सूची 453.12	<b>अभिसारिका</b> अभिसारिका 237.4 ⇨	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभियादित</b> अभियादित 1060.27 ⇨	<b>अभिव्यापक</b> प्रसारित 979.17 व्यापक 981.12	<b>अभिसारिका नायिका</b> अभिसारिका नायिका 456.17 ⇨	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभियादी</b> अभियादक 1060.28	<b>अभिव्यापन</b> व्याप्ति 981.5	<b>अभिसारी</b> अभिसारी 237.3 ⇨	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभिवानर</b> बनमानुस 127.91	<b>अभिरांका</b> आशंका 377.1 संदेह 341.3	<b>अभिसारिका नायिका</b> अभिसारिका नायिका 456.17 ⇨	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभिव्युद्धि</b> वृद्धि 979.4 सफलता 512.1 समृद्धि 626.1	<b>अभिरापाय</b> शापित 713.8	<b>अभिसारी</b> अभिसारी 237.3 ⇨	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभिव्येदक</b> अभिव्यक्ति कर्ता 428.18	<b>अभिरापाय</b> मिथ्या आरोप 875.10 शाप 713.1	<b>अभिसूचन</b> संज्ञापन 441.7	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभिवेदन</b> अभिव्यक्ति 428.1 निवेदन 350.1	<b>अभिरापाय</b> मिथ्या आरोप 875.10 शाप 713.1	<b>अभिसूचना</b> संसूचना 441.6	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभिवेदन कर्ता</b> निवेदक 350.16	<b>अभिरापाय</b> मिथ्या आरोप 875.10 शाप 713.1	<b>अभिसूचि</b> रचना कर्म 527.1 सृष्टि रचना 529.1	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभिवेदित</b> निवेदित 350.15	<b>अभिरापाय</b> मिथ्या आरोप 875.10 शाप 713.1	<b>अभिसूच्यक</b> आसवक 82.8	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभिव्यंजक</b> अभिव्यक्ति कर्ता 428.18 अभिव्यक्तिपूर्ण 428.16	<b>अभिरापाय</b> मिथ्या आरोप 875.10 शाप 713.1	<b>अभिसूच्यण</b> आसवन 82.1 मद्य आसवन 82.2	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभिव्यंजन</b> अभिव्यक्ति 428.1	<b>अभिरापाय</b> मिथ्या आरोप 875.10 शाप 713.1	<b>अभिसूच्यणी</b> मद्य आसवन शाला 82.3	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभिव्यंजना</b> अभिव्यक्ति 428.1 भाव अभिव्यक्ति 358.10	<b>अभिरापाय</b> मिथ्या आरोप 875.10 शाप 713.1	<b>अभिरापायणी</b> मद्य आसवन शाला 82.3	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31
<b>अभिव्यंजना शैली</b> काव्य प्रवृत्ति 453.13	<b>अभिरापाय</b> मिथ्या आरोप 875.10 शाप 713.1	<b>अभिरापायणी</b> मद्य आसवन शाला 82.3	<b>अभिहित</b> धर्म सम्मत 735.12 निदेशित 347.16 परिभाषित 317.17 विधायित 878.31

## अभीष्टद

उद्देश्य 508.2  
 प्रयोजन 508 1  
 प्रिय 369 7  
 स्वीकार्य 337 17  
**अभीष्टद**  
 इच्छा पूरक 361 14  
**अभीष्ट वाक्य**  
 वरदाता 714.9  
**अभीष्ट सिद्धि**  
 इच्छा पूर्ति 361 1  
**अभी हाल**  
 निकट भूत काल 36 11  
 निकट भूत काल मे 36.31  
**अभी होने वाला होना**  
 आसन्न होना 67 7  
**अभुक्त**  
 अभुक्त 364.9 ⇌  
**अभुक्तता**  
 अभुक्तता 364.2 ⇌  
**अभुक्तपूर्व**  
 अभुक्त 364.9  
**अभुक्तभोगी**  
 अभुक्तभोगी 364.11 ⇌  
**अभुगतान**  
 अभुगतान 639.1 ⇌  
 दिवाला 646 8  
**अभुज**  
 लूला 153 18  
**अभूत**  
 अघटित 75.14  
 अजन्मा 247 7  
 अभूतपूर्व 312.18  
 अव्यतीत 74 4  
 असत्यतापूर्ण 821.16  
 अस्तित्वहीन 247 6  
**अभूतपूर्व**  
 अभूतपूर्व 312.18 ⇌  
**अभूतपूर्वतः**  
 अभूतपूर्वतः 312.21 ⇌  
**अभूतपूर्वता**  
 अभूतपूर्वता 312.5 ⇌  
**अभूतपूर्व सफलता**  
 कीर्तिमान 512.2  
**अभूतपूर्व सिद्धि**  
 कीर्तिमान 512.2  
**अभूतपूर्व होना**  
 अभूतपूर्व होना 312 13 ⇌  
**अभूमि**  
 अनुपयुक्त स्थान 70.6  
**अभूरी**  
 अल्प 942.13  
**अभूतक**  
 बेगार कृषक 553.26  
 बेगार श्रमिक 643 21  
**अभेद**  
 अवेध्य 519.26  
 ईश्वरः अद्वैतता 764 5  
 एकाकारता 987.3

छलहीनता 815.3  
 समरूपता 967 10  
 समान 309.22  
 समानता 309.5  
 सम्मिश्रितता 1008.13  
**अभेद्य**  
 अजेय 519.27  
 अवेध्य 519.26  
 हीरा 96.28  
**अभेद्यता**  
 अवेध्यता 519.10  
**अभोक्तव्य [अभोक्तव्या]**  
 अभोग्य 364.10  
**अभोक्ता**  
 अनासक्त 366 5  
 सयमी 808 17  
**अभोग**  
 अनासक्ति 366.1  
 अनुपभोग 525.1  
 अभोग 364.1 ⇌  
**अभोगा [अभोगी]**  
 अभुक्त 364.9  
**अभोगी**  
 भोग त्यागी 364 12  
**अभोग्य**  
 अनुपभोग्य 525.7  
 अभोग्य 364.10 ⇌  
**अभोग्य [अभोग्या]**  
 अभोग्य 364.10  
**अभोजन**  
 अभोजन 181.5 ⇌  
 व्रत उपवास 748 1  
**अभोजित**  
 अप्राप्तभोजन 181.52  
**अभोजितता:**  
 अनखाए 181.70  
**अभोज्य**  
 अनाहार्य 197.23  
 धर्म निषिद्ध (आहार) 198.12  
**अभौतिक**  
 अशारीरिक 139.12  
 परलौकिक 258.14  
**अभ्यंतर**  
 अंदर 999.17  
 अभ्यंतर 985.13 ⇌  
 आंतरिक स्थान 33.5  
 घनिष्ठ 704.27  
 नितल 985.9  
 मन 351.2  
**अभ्यंतरक**  
 घनिष्ठ मित्र 704.14  
**अभ्यंतर दिशा**  
 निम्न दिशा 983.2  
**अभ्यंतरीय**  
 अभ्यंतरीय 985.18 ⇌  
 आतंरिक 999 12  
**अभ्यन्तन**  
 रोग आक्रमण 169.1

**अभ्यर्चन**  
 पूजन 751.2  
**अभ्यर्चक**  
 पूजक 751.3  
 याचक 642.19  
**अभ्यर्चन**  
 पूजन 751.2  
**अभ्यर्चना**  
 अभिवादन 1060.1  
 पूजा 751 1  
 प्रार्थना 350.4  
 याचना 642.1  
 स्वागत 1059.1  
**अभ्यर्चनीय**  
 स्वागत योग्य 1059.26  
**अभ्यर्थित**  
 प्रार्थित 350.17  
 याचित 642.18  
**अभ्यर्थिता**  
 पद आवेदकता 653.4  
**अभ्यर्थी**  
 पद आवेदक 653.31  
 प्रार्थी 350.18  
**अभ्यर्थ्य**  
 स्वागत योग्य 1059.26  
**अभ्यर्पयिता**  
 उपहार / प्रदाता 640.15  
**अभ्यर्पित**  
 उपहृत 640.13  
**अभ्यस्तित**  
 अधीत 321.50  
**अभ्यसूय**  
 ईर्ष्या 709.1  
**अभ्यस्त**  
 अभ्यस्त 303.19 ⇌  
 आदी 836.9  
 प्रवीण 303.22  
**अभ्यस्तता**  
 प्रवीणता 303.8  
**अभ्यस्ता होना**  
 अभ्यस्त होना 303.12 ⇌  
**अभ्याकांक्षा**  
 महत्त्वाकांक्षा 508.3  
**अभ्यागत**  
 अतिथि 183.16  
 गंतव्यप्राप्त 1100.8  
**अभ्यागति**  
 गंतव्य प्राप्ति 1100.3  
**अभ्यागम**  
 अभ्यागम 1059.11 ⇌  
 गंतव्य प्राप्ति 1100.3  
 परिणाम प्राप्ति 510.2  
**अभ्यागमन**  
 निकट आगमन 1093.4  
 शुभागमन 1093.2  
**अभ्यागारिक**  
 गृहस्थ 235.3

**अभ्यागारिणी**  
 गृहस्थिन 235.4  
**अभ्यास**  
 अभ्यास 303.5 ⇌  
 आदत 836.3  
 झिल 1083.6  
 रिहर्सल 488.16  
 लक्ष्य अभ्यास 931.8  
 स्मृति 356.1  
 स्वर साधन 480.9  
**अभ्यास करना**  
 अभ्यास करना 303.11 ⇌  
**अभ्यास करवाना**  
 अभ्यास करवाना 303.13 ⇌  
**अभ्यास कर्ता**  
 अभ्यास कर्ता 303.20 ⇌  
**अभ्यास पुस्तिका**  
 रफ़ बुक 415.19  
**अभ्यासहीन**  
 अनुभवहीन 304.8  
**अभ्यासहीनता**  
 अनुभवहीनता 304.3  
**अभ्यासी**  
 अभ्यास कर्ता 303.20  
**अभ्याहत**  
 आहत 168.6  
**अभ्युच्चय**  
 उत्थान 1030.1  
**अभ्युत्थान**  
 अभ्युत्थान 1059.10  
 उदय 5.7  
 उन्नति 534.1  
**अभ्युत्थित**  
 उदित 5.28  
**अभ्युद्यय**  
 इच्छा पूर्ति 361.1  
 उदय 5.7  
 उन्नति 534.1  
 समृद्धि 626.1  
**अभ्युदाहरण**  
 उदाहरण 309.6  
**अभ्युदित**  
 उदित 5.28  
 समृद्ध 626.11  
**अभ्युद्युक्त होना**  
 अभ्युद्युक्त होना 1059.24 ⇌  
**अभ्युद्युगमन**  
 अभ्युद्युगमन 1059.10 ⇌  
**अभ्युद्युष्वात**  
 अभ्युदेश 437.5  
**अभ्युदेश**  
 अभ्युदेश 437.5 ⇌  
**अभ्युदेशक**  
 अभ्युदेशक 437.12 ⇌  
**अभ्युदेश करना**  
 अभ्युदेश करना 437.10 ⇌  
**अभ्युदेशित**  
 अभ्युदेशित 437.11 ⇌



अभ्युपगमन  
निकट आगमन 1093.4  
अभ्युपेत  
वचन दत्त 339.40  
स्वीकृत (अपराध) 876.27  
अभ्रश  
अधिकार 533.6  
अभ्र  
अभ्रक 283.16  
आकारा 2.1  
कपूर 274.14  
झंझायात मेघ 55.4  
मेघ 55.1  
वर्षा काल 54.1  
अभ्रक  
अभ्रक 283.16 ⇨  
अभ्र गंगा  
आकाश गंगा 1.14  
अभ्रनाग  
ऐरावत 780.5  
अभ्र पिशाच  
राहु 6.4  
अभ्र पुष्प  
जल 88.1  
अभ्रम  
दृकमतता 343.2  
भ्रमहीन 340.21  
भ्रमहीनता 340.8  
अभ्र भासंग  
ऐरावत 780.5  
अभ्रमित  
अविचल 500.15  
दुःखिधाहीन 500.13  
भ्रमहीनता 340.21  
अभ्रमु  
दिग्गज पत्नी सूची 780.4  
अभ्ररोह  
लहसुनिया 96.25  
अभ्रकृत  
अधिकृत 533.14  
शौच (आहार) 198.13  
अभ्रति  
दृकमतपूर्ण 343.13  
भ्रमहीन 340.21  
अभ्रति  
दृकमतता 343.2  
अभ्रती  
दिग्गज वेत्त 589.8  
अभ्रित  
मेघाच्छन्न 55.14  
अभ्रिय  
आकाशीय 2.7  
अभ्रंगल  
अकल्याण 711.1  
अभ्रंगल कार्य 797.1  
अभ्रुम शकुन् 262.3  
दुर्भाग्य 280.18

अभ्रंगल उत्सव  
अभ्रंगल उत्सव 797.2 ⇨  
अभ्रंगल कामना  
अकल्याण कामना 711.3  
अभ्रंगलकारिता  
अकल्याणकारिता 711.2  
अभ्रंगलकारी  
अकल्याणकारी 711.9  
अभ्रंगल कार्य  
अभ्रंगल कार्य 797.1 ⇨  
अभ्रंगल काल  
अभ्रंगल काल 797.3 ⇨  
अभ्रंगल गीत  
अभ्रंगल गीत 797.7 ⇨  
अभ्रंगल दिवस  
अभ्रंगल दिवस 797.4 ⇨  
अभ्रंगल परिधान  
अभ्रंगल परिधान 797.5 ⇨  
अभ्रंगल भाषी  
अकल्याण भाषी 711.12  
अभ्रंगल संगीत  
अभ्रंगल संगीत 797.6 ⇨  
अभ्रंगल सूचक  
अकल्याण सूचक 711.10  
अभ्रंगल होना  
अकल्याण होना 711.6  
अभ्रंगल्य  
अभ्रंगल कार्य 797.1  
अभ्रंगनीय  
अभ्रंगनीय 468.0 ⇨  
अभ्रंग्य  
अभ्रंगनीय 468.36  
अभ्रंगित  
अनलंकृत 227.5  
अभ्रंगद  
अभ्रंगल 119.14  
प्रबल 487.24  
अभ्रंगवता  
प्रबलता 487.6  
अभ्रंगदकिनीय नीहारिका  
अभ्रंगदकिनीय नीहारिका 1.11 ⇨  
अभ्रंगूर  
अभ्रंगूर 277.6 ⇨  
अभ्रंगका  
अभ्रंगका 277.7 ⇨  
अभ्रंगत  
भ्रमहीनता 344.2  
अभ्रंगतांघ  
उदार 344.5  
अभ्रंगतांघता  
उदार दृष्टिकोण 344.1  
अभ्रंगति  
कुटिल 818.7  
कुस्वभाव 838.1  
अभ्रंगत  
अभ्रंगदोन्मत्त 211.16  
अभ्रंगत्तर  
ईर्ष्याहीन 709.7

अभ्रंगत्तरतः  
ईर्ष्याहीनतः 709.12  
अभ्रंगवन  
शिव 767.1  
अभ्रंगदोन्मत्त  
अभ्रंगदोन्मत्त 211.16 ⇨  
अभ्रंगन  
शांति काल 906.1  
सुराशासितता 893.3  
अभ्रंगनपसंद  
शांति प्रेमी 906.15  
अभ्रंगनपसंदी  
शांति प्रेम 906.2  
अभ्रंगनस्क  
उदास 380.14  
उद्विग्न 377.13  
अभ्रंगनस्कता  
उदासी 380.5  
अभ्रंगना  
अनुभूतिहीन 264.19  
उद्विग्न 377.13  
दानय सूची 783.13  
अभ्रंगनिया  
रसोई कर्म 195.6  
शौच (आहार) 198.13  
अभ्रंगनीषी  
अविचारक 330.23  
अभ्रंगनुजता  
अमानवीयता 734.3  
अभ्रंगनुष्यता  
अमानवीयता 734.3  
अभ्रंगनीकी  
ठिठई 860.9  
अभ्रंगनी अमान  
सुरक्षा 908.4  
सुराशासितता 893.3  
अभ्रंगनोन्न  
अरोचक 401.10  
अभ्रंगनोयोग  
ध्यानहीनता 331.3  
अभ्रंगनोरंजकता  
अरोचकता 401.1  
अभ्रंगन  
अभावुक 358.30  
निर्दय 835.10  
स्वार्थहीन 712.18  
अभ्रंगनता  
अनासक्ति 366.1  
इतरता 945.2  
परजन भावना 725.4  
अभ्रंगनय  
रोग 163.1  
अभ्रंगन  
अनश्वर 37.9  
ईश्वर 764.1  
तीतीसः उपमान सूची 948.83  
देवता 772.1  
पारा 94.9

मृत्यु विजेता 250.17  
विश्वकर्मा 773.44  
अभ्रंग कंटक  
भारत उपमहाद्वीपः पर्वत सूची 17.1  
अभ्रंग कानन  
देवताः उद्यान 772.12  
अभ्रंगण  
अमृत्यु 250.1  
अभ्रंगण मंत्र  
सजीवनी मंत्र 250.8  
अभ्रंग तक्ष  
कल्पवृक्ष 13.29  
अभ्रंगता  
अनश्वरता 37.3  
अभ्रंगत्व  
देवत्व 772.2  
अभ्रंग दारु  
देवदारु 13.10  
अभ्रंगदास  
सिख गुरु सूची 794.2  
अभ्रंग क्षिप्र  
मंदिर कर्मा ब्राह्मण 731.18  
अभ्रंग धाम  
स्वर्ग 259.1  
अभ्रंग पक्ष  
पितृ पक्ष 45.4  
अभ्रंग पद  
देवत्व 772.2  
मोक्ष 257.1  
अभ्रंगपुरी  
इन्द्र नगर अमरावती 773.7  
अभ्रंगपुष्प  
कौंस घास 11.7  
अभ्रंग बेल  
परजीवी वनस्पति 111.6  
अभ्रंग रत्न  
स्फटिक 283.20  
अभ्रंग लोह  
मोक्ष लोक 258.10  
स्वर्ग 259.1  
अभ्रंगरस  
आम पापङ्क 203.52  
अभ्रंग सरिता  
गंगा नदी 20.10  
अभ्रंगरंगना  
अप्सरा 782.2  
देवी 774.1  
अभ्रंगराई  
आभ्र वन 12.22  
देवताः उद्यान 772.12  
अभ्रंगराधार्य  
बृहस्पति 789.22  
अभ्रंगराशि  
सुनेरु 17.17  
अभ्रंगराधिप  
इन्द्र 773.5  
अभ्रंगरापगा  
आकाश गंगा 1.14

## अमरारि

गंगा नदी 20.10  
**अमरारि**  
 असुर 783.6  
**अमरारि पूज्य**  
 शुक्राचार्य 789.23  
 परालय  
 स्वर्ग 259.1  
 राव  
 आम्र वन 12.22  
 रावती  
 इंद्रः नगर अमरावती 773.7  
**अमरी**  
 देव कन्या 774.2  
 देवी 774.1  
**अमरीका**  
 पश्चिमी भूगोलार्ध 10.7  
**अमरीका उत्तर**  
 महाद्वीप सूची 26.5  
**अमरीका दक्षिण**  
 महाद्वीप सूची 26.5  
**अमरीकी जातिवादी**  
 लाल जाति 730.12  
**अमरीकी महाद्वीप**  
 पश्चिमी भूगोलार्ध 10.7  
**अमरीकी हीरा**  
 ज़ाकॉन 96.10  
**अमरुत**  
 अमरुद 190.6  
 रुद  
 अमरुद 190.6 ⇌  
 छाद्य फल सूची 190.2  
**अमरेश्वर**  
 इंद्र 773.5  
 शिवलिंग सूची 746.17  
**अमर्त्य**  
 अनश्वर 37.9  
 देवता 772.1  
 परलौकिक 258.14  
**अमर्त्यता**  
 अनश्वरता 37.3  
**अमर्त्य लोक**  
 मोक्ष लोक 258.10  
**अमर्षित**  
 अपराजित 913.6  
**अमर्षाद्य**  
 अतिक्रामक 1001.42  
 असीम 1001.34  
 स्वेच्छाधारी 809.7  
**अमर्षाद्यतः**  
 स्वेच्छाधारित 809.11  
**अमर्षाद्यता**  
 असीमता 1001.3  
**अमर्षाद्य**  
 अप्रतिष्ठा 850.1  
 असीमता 1001.3  
 सीमातिक्रमण 1001.27  
 स्वेच्छाधार 809.1

**अमर्षाद्यितता**  
 स्वेच्छाधार 809.1  
**अमर्ष**  
 असहिष्णुता 873.4  
 ईर्ष्या 709.1  
 उद्वेग 377.3  
 क्रोध 373.1  
**अमर्षी**  
 ईर्ष्यालु 709.6  
**अमल**  
 आचरण 808.1  
 आदत 836.3  
 उपभोग 524.1  
 कार्य 506.1  
 कार्यान्वयन 505.5  
 टोना टोटका 759.1  
 तंत्र क्रिया 758.3  
 साधना 303.7  
**अमल इस्पात**  
 स्टेनलेस स्टील 93.15  
**अमलक्रोधी**  
 चीड़ 13.7  
**अमलतास**  
 अमलतास 13.3 ⇌  
 उपवन पुष्प सूची 14.2  
 नगर वृक्ष सूची 13.2  
**अमल दग्धल**  
 आधिपत्य 899.8  
**अमलदार**  
 आधिपत्यधारी 899.9  
 सत्ताधारी 899.3  
**अमलदारी**  
 अधिकार क्षेत्र 897.2  
 आधिपत्य 899.8  
 भू संपत्ति सूची 624.12  
 सत्ता 899.1  
**अमल पट्टा**  
 अधिभोग पत्र 822.4  
**अमल पानी करना**  
 भौग पीना 210.7  
 मद सेवन करना 211.8  
**अमला**  
 कार्यालय 654.3  
 दलबल 691.2  
 लक्ष्मी 775.1  
 शीतला 774.91  
**अमला फैला**  
 कर्मचारी समूह 652.28  
**अमलासाज**  
 रिश्वत प्रदाता 865.25  
**अमलिन**  
 स्वच्छ 218.33  
**अमली**  
 मद सेवी 211.13  
 व्यावहारिक 828.9  
**अमसृणता**  
 खुरदुरापन 269.5

**अमस्तु**  
 पनीर जल 193.15  
**अमहत्त्व**  
 महत्त्वहीनता 853.1  
**अमहत्त्वाकांक्षा**  
 अमहत्त्वाकांक्षा 508.4 ⇌  
**अमहत्त्वाकांक्षी**  
 अमहत्त्वाकांक्षी 508.10 ⇌  
**अमहर**  
 अमहर 277.5 ⇌  
**अमहा**  
 कामचोर बिल 127.14  
**अमांगलिक**  
 अकल्याणकारी 711.9  
**अमांस**  
 मांसहीन 132.19  
**अमांसक**  
 घरहरा 154.30  
**अमा**  
 अंधकार 286.1  
 अमायस्या 44.21  
 रात 48.1  
**अमायुक**  
 माताहीन 719.7  
**अमायुता**  
 माताहीनता 719.3  
**अमाप्य**  
 परामर्शक 332.14  
 मंत्री 889.18  
 राजा मंत्री 889.20  
**अमात्य कक्ष**  
 दरबारे खास 695.10  
 मंत्रणा कक्ष 614.15  
**अमात्र**  
 असंख्य 944.8  
 आंशिक 939.11  
 निर्गुण ब्रह्म 764.28  
**अमात्रता**  
 असंख्यता 944.3  
**अमात्रा**  
 विशाल मात्रा 946.8  
**अमात्सर्य**  
 ईर्ष्याहीन 709.7  
**अमान**  
 अमाप्य 958.60  
 असंख्य 944.8  
 प्राण क्षमा 250.2  
 रक्षा 908.1  
 शरण 910.4  
 शांति काल 906.1  
**अमानक**  
 अमानक 957.8 ⇌  
**अमानत**  
 धरोहर 633.27  
 बंधक वस्तु 633.26  
**अमानत खाना**  
 बंधक दूकान 633.24

**अमानत घर**  
 बंधक दूकान 633.24  
**अमानतदार**  
 बंधक ग्राही 633.19  
**अमानत में खयानत**  
 ग़बन 865.7  
 बंधक द्रोह 633.23  
**अमान मौगना**  
 प्राण क्षमा मौगना 250.12  
**अमानव**  
 अमानव 772.38 ⇌  
 अमानवीय 734.15  
**अमानवता**  
 अमानवीयता 734.3  
**अमानवीय**  
 अमानवीय 734.15 ⇌  
**अमानवीयता**  
 अमानवीयता 734.3 ⇌  
**अमानवीयतापूर्ण**  
 अमानवीय 734.15  
**अमानवोद्यित**  
 अमानवीय 734.15  
**अमानवोद्यितता**  
 अमानवीयता 734.3  
**अमानिया**  
 अरुपांशित 269.16  
 विशुद्ध 219.7  
**अमानी**  
 अनभिमानी 859.6  
 अमानीदारी 643.12  
**अमानीदार**  
 अमानीदार 643.13 ⇌  
**अमानीदारी**  
 अमानीदारी 643.12 ⇌  
**अमानुष**  
 पैशाधिक 786.16  
**अमानुषिक**  
 अमानवीय 734.15  
 मानव अरुपित 528.9  
**अमानुषिकता**  
 अमानवीयता 734.3  
 मानव अरुपितता 528.3  
**अमानुषीय**  
 परलौकिक 258.14  
**अमान्य**  
 अवैध 878.27  
 निषिद्ध 880.12  
**अमान्यता**  
 अवैधता 878.15  
**अमापित**  
 अमापित 958.59 ⇌  
**अमाप्य**  
 अमाप्य 958.60 ⇌  
**अमाय**  
 अनासक्त 366.5  
 मायाहीन 762.19  
**अमायिक**  
 मायाहीन 762.19

अमायी  
 चलहीन 815.8  
 मायाहीन 762.19  
 अमारण  
 अहत्या 250.3  
 अमारणीय  
 अहंतव्य 250.19  
 अमार्ग  
 मार्गघ्युत 1099.8  
 अमार्जित  
 अपरिष्कृत 533.12  
 अमार्जितता  
 भदेसपन 403.3  
 अमावट  
 आम पापड 203.52  
 अमावस  
 अमावसः रात 48.5  
 अमावस्या 44.21  
 अमावसः रात  
 अमावस रात 48.5 ⇨  
 अमावस्या  
 अमावस्या 44.21 ⇨  
 अमावस्या (दे.)  
 अमावसः रात 48.5  
 अमावस्या देवी  
 देवसेना 774.47  
 अमाहात्य  
 महत्त्वहीनता 853.1  
 अमित  
 अनश्वर 37.9  
 अमितता  
 अनश्वरता 37.3  
 अमित रंग  
 पक्का रंग 289.26  
 अमित रेख  
 प्रारब्ध लेख 260.6  
 अमित  
 अमापित 958.59  
 अमाप्य 958.60  
 असंख्य 944.8  
 असीम 1001.34  
 अमित विक्रम  
 विष्णु 768.1  
 अभिताम  
 बोधिसत्त्व 793.15  
 बोधिसत्त्व सूची 793.16  
 अभिताशन  
 अग्नि 106.1  
 अभिति  
 असीमता 1001.3  
 अभिताजा  
 सर्वशक्तिशाली 487.22  
 अभिन्न  
 मित्रहीन 705.29  
 शत्रु 706.2  
 अभिन्नधाती  
 शत्रु नासक 706.20

अभिन्नता  
 शत्रुता 706.1  
 अभिध्या  
 सत्यतापूर्ण 820.20  
 अभिय  
 अमृत 177.1  
 अभिय मुरि  
 संजीवनी औषध 250.7  
 अभिल  
 असदृश 310.6  
 अभिलन  
 अभिश्रण 1008.17  
 वियोग 388.1  
 अभिलित  
 अभिश्रित 1008.30  
 अभिश्र  
 अभिश्रित 1008.30  
 विशुद्ध 219.7  
 अभिश्र अंक  
 एक से नौ तक संख्या 948.16  
 अभिश्रण  
 अभिश्रण 1008.17 ⇨  
 वर्ण शुद्धता 731.30  
 अभिश्रता  
 अभिश्रितता 1008.18  
 अभिश्र राशि  
 एक से नौ तक संख्या 948.16  
 अभिश्रित  
 अभिश्रित 1008.30 ⇨  
 शुद्ध वर्णीय 731.39  
 अभिश्रितता  
 अभिश्रितता 1008.18 ⇨  
 वर्ण शुद्धता 731.30  
 विशुद्धता 219.2  
 अभिश्रित राग  
 शुद्ध राग 457.18  
 अभिष  
 भोग्य वस्तु 383.3  
 मांस 132.1  
 अभीत  
 शत्रु 706.2  
 अभीन  
 कर संग्राहक 847.34  
 कार्यकर्ता 506.9  
 क्षेत्र मापक 599.18  
 बंधक ग्राही 633.19  
 अभीन पैमाइश  
 क्षेत्र मापक 599.18  
 अभीनो अम्ल  
 अभीनो अम्ल 179.6 ⇨  
 अभीषा (अँ)  
 अभीषानु 122.3  
 अभीषानु  
 अभीषानु 122.3 ⇨  
 अभीषानु (अँ)  
 अभीषानु 122.3  
 अभीर  
 दल नायक 852.6

धनाढ्य 626.14  
 धनाढ्य व्यक्ति 626.5  
 पुरुष उपाधि सूची 856.2  
 सामंत 882.32  
 सार्थपति 657.14  
 अभीर उमरा  
 धनाढ्य जन 626.4  
 अभीर गरीब  
 विपरीतता उपमान सूची 310.13  
 अभीरजावा  
 बड़ा आदमी. पुत्र 718.9  
 राजकुमार 882.20  
 अभीरजावादी  
 राजकुमारी 882.21  
 अभीराना  
 धनाढ्योचित 626.17  
 अभीरी  
 दल नायकता 852.5  
 धनाढ्यता 626.3  
 अभीरुल बहर  
 पोताध्यक्ष 1080.16  
 अभीरुल मोमिनीन  
 मुहम्मद 791.20  
 अमुक  
 अमुक 316.22 ⇨  
 अमुक अमुक  
 अमुक अमुक 316.23 ⇨  
 अमुकुसित  
 प्रस्फुटित 119.10  
 अमुकुसितता  
 प्रस्फुटितता 119.2  
 अमुक  
 आवागमन प्रस्त 246.12  
 अमुखर  
 मीन 429.22  
 अमुखरता  
 ध्वनिहीनता 295.1  
 मीन भाव 429.3  
 अमुखरित  
 अघ्यनित 295.5  
 अमुख्य  
 अप्रधान 853.9  
 अमुख्य अर्थ  
 लक्षणार्थ 426.5  
 अमुख्य दीवार  
 अमुख्य दीवार 607.3 ⇨  
 अमुख्य  
 अलुख्य 380.16  
 अमुत्र  
 परलोक 258.12  
 अमुत्रत्व  
 परलौकिक 258.14  
 अमुत्र लोक  
 परलोक 258.12  
 अमुत्रलिन  
 गैरमुसलिम 736.3  
 अमुक  
 मुखर 428.21

अमुकता  
 मुखरता 428.4  
 अमुक  
 अलुख्य 360.16  
 ज्ञानी 305.30  
 अमुमन  
 प्रायः 73.7  
 अमूर्त  
 आयामहीन 964.21  
 निराकार 967.13  
 निराकार ईश्वर 764.8  
 ब्रह्म 764.24  
 शिव 767.1  
 अमूर्तता  
 आयामहीनता 964.3  
 निराकारता 967.2  
 अमूर्ति  
 विष्णु 768.1  
 अमूर्त  
 ईश्वर 764.1  
 अमूल  
 तर्कहीन 325.22  
 निराधार 1019.16  
 अमूलता  
 निराधारता 1019.4  
 अमूल वनस्पति  
 परजीवी वनस्पति 111.6  
 अमूल्य  
 निरशुल्क 685.8  
 बहुमूल्य 664.31  
 मूल्यातीत 684.30  
 अमूल्यता  
 मूल्यातीतता 664.10  
 अमृगाल  
 गोंडर घास मूल 112.15  
 अमृत  
 अमृत 177.1 ⇨  
 अ-मृत  
 अ-मृत 250.16 ⇨  
 अमृत  
 इंद्र 773.5  
 गंगाजल 88.9  
 जल 88.1  
 पारा 94.9  
 विष्णु 768.1  
 अमृत (दे.)  
 जीवन जल 176.9  
 सोमरस 210.5  
 अमृत कामना  
 शरद पूर्णिमा 57.26  
 अमृतगर्भ  
 ब्रह्म 764.24  
 अमृत जल  
 जीवन जल 176.9  
 अमृतबान  
 कटोरदान 676.8  
 अमृत ब्रह्म  
 चंद्र किरण 288.2

## अमृतप

**अमृतप**  
 दान्य सूची 783 13  
**अमृत पिलाना**  
 पुनरुज्जीवित करना 250 15  
**अमृत पुत्र**  
 देवता पुत्र 772.5  
**अमृत फल**  
 नारंगी 190 22  
**अमृतबान**  
 भरतबान 676 11  
**अमृत मालिनी**  
 दुर्गा 776.7  
**अमृत मूरि**  
 सजीवनी औषध 250 7  
**अमृत रश्मि**  
 चंद्रमा 8 2  
**अमृतवपु**  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767 1  
**अमृताद्य**  
 देवता 772 1  
**अमृताशु**  
 चंद्रमा 8 2  
**अमृता**  
 चंद्र कला सूची 8 4  
 जमीकंद 189.21  
 तुलसी 13 9  
 दूब घास 11 10  
 पीपल 13.14  
 हड़ 281 37  
**अमृताश**  
 विष्णु 768 1  
**अमृताशी**  
 देवता 772.1  
**अमृताहरण**  
 गरुड़ 777 15  
**अमृताशय**  
 विष्णु 768 1  
**अमृताश्वर**  
 देवता 772.1  
 शिव 767.1  
**अमृताश्वरी**  
 वारुणी 774 84  
**अमृत्यु**  
 अमृत्यु 250.1 ⇨  
 विष्णु 768.1  
 शिव 767 1  
**अमृत्युता**  
 खुरदुरापन 269 5  
**अमृत्युलता**  
 खुरदुरापन 269 5  
**अमेदस्क**  
 छरहरा 154 30  
 वसाहीन 132 23  
**अमेदस्कता**  
 क्षीणकायता 159.4  
**अमेदस्किनी**  
 छरहरी 154.31

**अमेय**  
 अज्ञेय 308.13  
 अनाप्य 958.60  
**अमोक्ष**  
 आवागमन चक्र 246 3  
**अमोघ**  
 लक्ष्यानुगामी 931.22  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767 1  
**अमोघ विक्रम**  
 शिव 767 1  
**अमोघा**  
 शिव पत्नी 767.19  
 हड़ 281 37  
**अमोघ**  
 आनंदहीन 383 10  
 आनंदहीनता 383 2  
**अमोरी**  
 अमड़ा 277 7  
 कच्चा आम 190 9  
**अमोला**  
 बहुमूल्य 664 31  
 मूल्यातीत 664 30  
**अमोह**  
 अनासक्ति 366 1  
**अमोहित**  
 अलुब्ध 360.18  
**अमोही**  
 अनासक्त 366.5  
**अमोह्य**  
 अलुब्ध 360 17  
**अमीन**  
 मुखर 428.21  
**अमीनत्व**  
 मुखरता 428.4  
**अमीलिक**  
 अनुकृत 505.30  
**अमीलिक कृति**  
 अमीलिक कृति 397.26 ⇨  
**अमीलिक रचना**  
 अमीलिक कृति 397.26  
**अम्म**  
 अलिक लाम मीम 741.31  
**अम्मव**  
 जलज 88.24  
 जलीय 88.22  
**अम्मी**  
 माता 717 7  
**अम्मा**  
 माता 717.7  
 विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.8  
 स्त्री उपाधि सूची 856 4  
**अम्पारी**  
 महभिल 595.52  
 हीदा 595 53  
**अम्पी**  
 माता 717.7

**अम्पी**  
 माता 717 7  
**अम्स**  
 अम्स 87.8 ⇨  
 खट्टा [खट्टी] 277.19  
 मट्टा 193 10  
 षट् स्वाद सूची 275.3  
 सिरका 277 15  
**अम्स उत्कीर्णन**  
 अम्स उत्कीर्णन 406.21 ⇨  
**अम्स जैमीर**  
 नीवू 189.24  
**अम्सता**  
 खटास 277 1,  
**अम्सता नाशक**  
 प्रतिअम्स 87.9  
**अम्सनाशक**  
 प्रतिअम्स 87.9  
**अम्स पनस**  
 बड़हल 190.26  
**अम्स पित्त**  
 अम्साधिक्य 163.27  
**अम्ससार**  
 नीवू 189.24  
**अम्साधिक्य**  
 अम्साधिक्य 163.27 ⇨  
**अम्सान**  
 अनर्थका 493.13  
 अम्सान 119.14 ⇨  
 उत्साहपूर्ण 491.9  
 स्फूर्त 491.13  
**अम्सानता**  
 स्फूर्ति 491.2  
**अम्सामय**  
 अम्साधिक्य 163.27  
**अम्सिका**  
 इमली 277.8  
**अम्सित**  
 किण्वित 195.59  
**अम्सिमा**  
 खटास 277.1  
**अम्सीकरण**  
 किण्वन 195.10  
**अम्हीरी**  
 मरोड़ी 165.10  
**अयंत्रचालन**  
 मानव चालन 1048.3  
**अयंत्रित**  
 नियंत्रणहीन 900.8  
 निरंकुश 881.40  
 मानव चालित 1046.26  
 स्वेच्छाचारी 809.7  
**अयंत्रीकृत**  
 मानव चालित 1046.26  
**अयः**  
 लोहा 93.7  
**अयःशंकु**  
 लोह कील 1016.14

सूली यंत्र 871.16  
**अयतार्थता**  
 तथ्यहीनता 821.11  
**अयति**  
 अजितेंद्रिय 363.18  
**अयती**  
 अविरक्त 365.7  
**अयतेंद्रिय**  
 अजितेंद्रिय 363 18  
**अयत्न**  
 अप्रयत्न 490.1  
**अयत्नज अलंकार**  
 अमिनयः अलंकार सूची 464.29  
**अयथा**  
 विरोधी 886.7  
**अयथापूर्व**  
 परिवर्तित 532.16  
**अयथार्थ**  
 अघरितार्थ 439.9  
 अवास्तविक 821 20  
 अय्यावहारिक 829 8  
 काल्पनिक 308.18  
 तथ्यहीन 821 22  
**अयथार्थता**  
 अवास्तविकता 821 9  
 अय्यावहारिकता 829.1  
**अयथार्थ बोध**  
 गलत ऋहनी 341.4  
**अयथेष्ट**  
 अपर्याप्त 942.17  
**अयथेष्टता**  
 अपर्याप्तता 942.3  
**अयन**  
 अयन 5.16 ⇨  
 गति 1042 1  
 गमन 1091.1  
 दुग्धशय 146.11  
 मवन 602 7  
 मार्ग 1063.1  
 संक्रमण 1091.3  
 संक्रमण काल 1091.4  
 संघलन 1037.4  
**अयन काल**  
 संक्रमण काल 1091.4  
**अयन सीमा**  
 अयनांत 5.19  
**अयनांत**  
 अयनांत 5.19 ⇨  
**अयव**  
 आंशिक 939.11  
**अयश**  
 अख्याति 848.2  
 लांछन 843.7  
**अयशास्वी**  
 अख्यात 848.5  
**अयशी**  
 कुख्यात 848.4

**अयस**

आयुध 922.1  
इस्पात 93.11  
खनिज 92.1  
धातु 93.1  
लोहा 93.7  
लोह चुंबक 1050.9

**अयस्क**

कच्ची धातु 93.2  
अयस्कांत  
चुंबक पत्थर 1050.8  
अयस्कांतता

दुबकता 1050.7

**अयस्कार**

लोहार 565.15

**अयौ**

प्रकट 822.27

**अयाचिततः**

अयाचितत 642.23 ⇨

**अयातयाम**

ताज्रा [ताज्री] 197.43

**अयातयामता**

ताज्रागी 197.14

**अयात्रा**

स्थावरता 1038.1

**अयान**

पदचर 1083.25

यानहीन 1082.33

**अयानगी**

अनुभवहीन सरलता 817.3

**अयान चरण**

पद चरण 1083.1

**अयाना [अयानी]**

अनुभवहीन सरल 817.9

अवयस्क 229.22

व्यवहार अकुशल 829.9

**अयानापन**

अनुभवहीन सरलता 817.3

**अयापित**

अव्यतीत 74.4

**अयाल**

अयाल 135.9 ⇨

कुटुंब 726.7

संतान समष्टि 718.2

**अयालदार**

अयाली 135.13

परिवारयुक्त 726.14

**अयाली**

अयाली 135.13 ⇨

**अयास**

अकस्मात् 69.13

अप्रयत्नतः 490.15

**अयुक्त**

असंगत 439.5

असंबंधित 715.13

तर्कहीन 325.22

सामंजस्यहीन 701.9

**अयुक्तता**

असामंजस्य 701.3

रहितता 1007.1

हटापन 32.3

**अयुक्त स्थान**

अनुपयुक्त स्थान 70.6

**अयुक्ति**

असंबंध 715.2

कुतर्क 325.3

तर्कहीनता 325.8

हटापन 32.3

**अयुक्तियुक्तता**

तर्कहीनता 325.8

**अयुगपद**

मित्र कालीन 60.11

**अयुगल**

अविवाहित 234.13

**अयुग्म**

हटा [हटी] 32.9

**अयुग्मनेत्र**

शिव 767.1

**अयुग्मशर**

कामदेव 773.12

**अयुज**

अमिश्रित 1008.30

**अयुत**

दस हजार 948.74

युतिहीन 1010.25

विलपन 1011.5

**अयुति**

युतिहीनता 1011.2

**अयुद्ध**

शांति काल 906.1

**अयुद्ध काल**

शांति काल 906.1

**अयुध्य**

अयोध्य 519.30

अयूरोपीय जातियों

अश्वेत जाति 730.8

**अयो**

लोह 93.17

**अयोग**

अनिष्ट योग 261.30

अमिश्रण 1008.17

असंबंध 715.2

कार्य अक्षमता 488.5

रहितता 1007.1

वियोग 388.1

हटापन 32.3

**अयोग क्षेप**

दुर्भाग्य 260.18

**अयोग्य**

अनुपयोगी 525.8

अनुभवहीन 304.8

अपात्र 304.7

अयोग्य 304.6 ⇨

कार्य अक्षम 488.18

क्षमताहीन 488.15

**अयोग्यता**

अपात्रता 304.2

अयोग्यता 304.1 ⇨

कार्य अक्षमता 488.5

**अयोधन**

हथीड़ा 559.39

**अयोजित**

अकस्मात् 69.13

योजनाहीन 520.21

**अयोजित रूप से**

राह चलते 1098.27

**अयोध**

अप्रशिक्षित सैनिक 934.3

**अयोधेय**

अप्रशिक्षित सैनिक 934.3

**अयोध्य**

अयोध्य 519.30 ⇨

**अयोध्य [अयोध्या]**

अजेय 519.27

अयोध्य 519.30

**अयोध्यता**

अयोध्यता 519.14 ⇨

**अयोध्या**

दशरथ राजधानी 770.38

राम राजधानी 770.10

**अयोध्या कांड**

रामचरित मानस. कांड 770.16

शाल्मीके रुमायण कंड सूची 770.14

**अयोध्या पति**

राम 770.1

**अयोनि**

अजन्म 247.2

ब्रह्मा 766.1

**अयोनिज**

विष्णु 768.1

शिव 767.1

**अयोनिजा**

सीता 770.66

**अयोमणि**

चुंबक पत्थर 1050.8

**अयोमल**

लोह मल 214.6

**अयोमुख**

दानव सूची 783.13

**अयोक्तिक**

तर्कहीन 325.22

विज्ञान विरुद्ध 307.14

**अयोक्तिक**

अमिश्रित 1008.30

**अयोगिकता**

अमिश्रितता 1008.18

**अय्यार**

तिलिस्मगर 474.14

**अय्यारी**

तिलिस्म 474.13

**अय्यारी**

विलास 363.6

**अरंकृति (बेब)**

काव्य अलंकार 454.1

**अरंज**

अरजित 291.15

**अरंगर**

विषजन्म 177.10

**अरंजित**

अरंजित 291.15 ⇨

**अरंज ककड़ी**

पपीता 190.24

**अर**

अरा 1077.7

अर्थ व्यास 972.14

**अरक**

अर्क 84.13

ताड मद्य 209.9

**अरक**

मद्य 209.1

**अरकटी**

कर्णधार 1080.19

**अरकाटी**

प्रवासी श्रमिक दलाल 650.5

**अरक**

रुधिरहीन 131.18

**अरक्षा**

अरक्षा 909.10 ⇨

**अरक्षित**

अरक्षित 909.22 ⇨

**अरक्षितता**

अरक्षा 909.10

**अरगंजा**

अरगंजा 580.3 ⇨

**अरगंडी**

अरगंडी 580.4 ⇨

**अरगजा**

अरगजा 274.13 ⇨

**अरराबानी**

गहरा लाल 289.61

**अररगान बाजा**

अररगान बाजा 461.21 ⇨

**अररघा**

शिवलिंग: अरघा 748.15

**अररचना**

अररचना 528.1 ⇨

**अररधित**

अररधित 528.6 ⇨

**अररधेता**

अररधेता 528.7 ⇨

**अररण**

कपड़ा: चीड़ाई 985.5

**अररणि**

काष्ठ सूची 597.2

मंधन: दंड 554.14

सूर्य 8.1

**अरण्य**

**अरण्य कांड**

रामचरित मानस: कांड 770.16

## अरण्य गान

कालीकि स्नानायनः कंडसूची 770.14	प्रार्थना 350.4	अरवी पत्ता: पकौड़ी	अराजपत्रित अधिकारी
अरण्य गान	प्रार्थना पत्र 350.5	अरवी पत्ता: पकौड़ी 200.18 ⇨	अराजपत्रित अधिकारी 652.10 ⇨
छांदोग्य आरण्यक 740.21	अरना	अरस	अराजपत्रित सेनाधिकारी
अरण्य युद्ध	अरना 127.21 ⇨	अकाव्यात्मक 451.30	अराजपत्रित सेनाधिकारी 935.5 ⇨
मोठ 188.15	वन्य 12.36	रसहीन 84.18	अराज्ञी
अरण्य यान	अरब	स्वादहीन 275.16	कृषि भूमि 552.1
वानप्रस्थाश्रम प्रवेश 233.5	अरब 948.79 ⇨	अरसज्ञ	अराति
अरण्य राज	इंद्र 773.5	सुरुधिहीन 401.17	बहिवकार 812.4
सिंह 127.50	अरब सागर	अरसना परसना	अराद्ध
अरण्य रोदन	अरब सागर 24.14 ⇨	टटोलना 336.21	अकृत 505.21
अरण्य रोदन 350.7 ⇨	अरबी अंक	स्पर्श करना 269.9	अरावा
अरण्यवास आश्रम	अंतरराष्ट्रीय अंक 948.5	अरसा	जोत गाड़ी 1071.28
वानप्रस्थ आश्रम 233.4	अरबी भिकित्सा	काल 36.1	तोप गाड़ी 1070.18
अरण्य वासी	हकीमी 172.10	दीर्घ काल 37.5	रथ 1071.46
वानप्रस्थ आश्रमी 233.10	अरबी क्लारसी	नियत काल 39.1	अराकट
अरण्य श्वान	क्लिष्ट भाषा 421.22	अरसा तंग होना	अरारोट 179.12
गीदड़ 127.75	अरमण	संकट में पड़ना 909.11	अरारोट
भेड़िया 127.77	अरोचक 401.10	अरसात्मक	अरारोट 179.12 ⇨
अरण्यानी	अरमणीय	अकाव्यात्मक 451.30	अराल
गहन वन 12.7	असुंदर 156.3	अरसिक	मस्त हाथी 127.41
वनदेवी 12.5	अरमान	अरसिक 838.15 ⇨	राल 290.25
अरण्यायन	लालसा 359.5	रुक्ष स्वभावी 838.12	वक्र 974.16
वानप्रस्थाश्रम प्रवेश 233.5	अरमान निकलना	सुरुधिहीन 401.17	अरावल दस्ता
अरण्यीय	इच्छा पूरी होना 361.7	अरसिकता	सेनाग्र 933.1
वन्य 12.36	अरमान रह जाना	अरसिकता 838.7 ⇨	अरावली पहाड़ियाँ
अरत	इच्छा पूरी न होना 362.3	अरहट्ट	भारत उपमहाद्वीपः पर्वत सूची 17.1
अतृप्त 362.6	अरम्यता	रहैट 19.13	अरिंद
अनासक्त 368.5	उच्चाटता 401.4	अरहन ?	शत्रु 706.2
अप्रवृत्त 503.11	अरर	आलन 201.25	अरिंदम
अरतता	आनंद. ध्वनि सूची 382.25	अरहर	शत्रुघ्न 770.58
अप्रवृत्तता 503.3	उल्लू 126.14	अरहर 188.8 ⇨	शत्रु विजेता 912.19
अरति	अरराई	दलहन सूची 188.7	शिव 767.1
अनासक्ति 368.1	दरदराई 540.4	अरहित	अरि
अप्रवृत्ति 503.2	अरराना	सहित 1006.2	छह. उपमान सूची 948.28
उच्चाट 401.16	दहना 539.11	अरा	शत्रु 706.2
उच्चाटता 401.4	अरक	अरा 1077.7 ⇨	बहिवकार 812.4
धितानुभूति 353.3	शत्रु 706.2	अर्थ व्यास 972.14	अरिघ्न
अरत्नि	अरलोन (अं)	अराअरी	शत्रुघ्न 770.58
अग्रहस्त 149.8	रासायनिक वस्त्र सूची 579.15	संघर्ष 905.1	शत्रु नाशक 706.20
अरथ	अरविद्य	अराग	अरित्र
रथहीन 1082.34	कमल 14.4	अप्रवृत्ति 503.2	अरा 1077.7
अरथ चरण	सारस 126.74	प्रवृत्तिहीन 503.10	अर्थ व्यास 972.14
पद चरण 1083.1	अरविदनयन	संगीतहीन 457.44	जलयान 1072.1
अरथी	कमलनयन 158.16	अरागात्मक	अरिबमन
अरथी 254.4 ⇨	अरविद्य नयन	अकाव्यात्मक 451.30	शत्रु नाशक 706.20
पदचर 1083.25	सुंदर नयन 158.4	अरागान्वित	शत्रु विजेता 912.19
यानहीन 1082.33	अरविदनयना	प्रवृत्तिहीन 503.10	अरिभर्ष
रथहीन 1082.34	कमलनयना 158.17	अरागी	शत्रु विजेता 912.19
शव यात्रा 253.2	अरविद्य बंधु	अनासक्त 366.5	अरिभर्षन
अरथी उठना	सूर्य 8.1	अराजक	शत्रुघ्न 770.58
मरना 249.18	अरविद्ययोनि	शासनहीन 894.7	शत्रु नाशक 706.20
शव यात्रा निकलना 253.30	ब्रह्मा 766.1	अराजकता	अरिभर्षन (पूर्वजन्म)
अरदन	अरविदिनी	अव्यवस्थितता 894.5	कुमकर्ण 784.6
अदंतुरित 144.17	कमल सरोवर 18.3	उपद्रवग्रस्तता 903.2	अरिया
अरदास	कमलिनी 14.8	शासनहीनता 894.1	अरा 1077.7
उपहार 640.2	अरवी	अराजकतापूर्ण	अरियाना
पूजा 751.1	अरवी 189.5 ⇨	शासनहीन 894.7	अपभाषण करना 433.5
पूजा गीत सूची 749.28	साग सम्बन्धी सूची 189.4		

**अरिष्ट**

अकल्याणकारी 711.9  
 अकल्याण सूचक 711.10  
 अरिष्ट 176.11 ⇨  
 कौआ 126.22  
 गिद्ध 126.26  
 टिक्कर 176.17  
 दानव सूची 783.13  
 दुर्घटना 168.2  
 दुर्भाग्य 260.18  
 दैत्य सूची 783.19  
 नीम 13.12  
 भौतिक संकट 909.3  
 मद्य 209.1  
 महाभारी 163.7  
 लहसुन 281.29  
 शत्रु 706.2  
 संकट 909.1  
 सुरक्षित 908.27  
**अरिष्टनेमि**  
 शिव 767.1  
**अरिष्टनेमि (अज्ञातवाप्तः नाम)**  
 सहदेव 771.96  
**अरिष्ट सूदन**  
 विष्णु 768.1  
**अरिष्टदान**  
 शत्रु नाशक 706.20  
**अरिष्टन**  
 तीर्थकर 792.1  
**अरिष्टा**  
 शत्रुघ्न 770.58  
 शत्रु नाशक 706.20  
**अरिष्टीन**  
 शत्रुहीन 708.17  
**अरीकरण**  
 विकिरण 288.5  
**अरीठा**  
 रीठा 220.25  
**अरुमुद**  
 हृदय भंजक 391.34  
**अरुघती**  
 अरुघती 774.8 ⇨  
 अरुघती 787.9 ⇨  
 ऋषि स्त्री सूची 789.25  
**अरुघती नाम**  
 वसिष्ठ 789.18  
**अरु**  
 और 945.10  
 लक्ष्य केंद्र 931.7  
**अरुऊन**  
 अविरामता 1049.1  
**अरुऊ**  
 कोमल 269.18  
 निष्ट स्वभावी 837.12  
 स्निग्ध स्वभावी 837.13  
**अरुऊन**  
 स्वस्थ 161.5

**अरुऊनता**

स्वस्थता 161.3  
**अरुषि**  
 अग्रवृत्ति 503.2  
 घृणा 370.2  
 धिक् 373.9  
 सुरुषिहीनता 401.5  
**अरुषिकर**  
 अप्रिय 370.5  
 अरोचक 401.10  
 अस्वादिष्ट 275.21  
 कडवा [कडवी] 276.7  
 कुस्वादिष्ट 275.22  
 घृणित 370.6  
**अरुषिकरता**  
 अरोचकता 401.1  
**अरुष्य**  
 घृणित 370.6  
**अरुण**  
 अरुण 777.14 ⇨  
 अरुण ग्रह 7.12  
 कुमकुम 225.16  
 लाल 289.60  
 सिंदूर 225.18  
 सूर्य 8.1  
 सौर मंडलः ग्रह सूची 7.4  
 स्वर्ण 95.4  
 हलका लाल 289.62  
**अरुण काल**  
 प्रभात काल 47.4  
**अरुण गरुड आदि**  
 वैनतेय 777.11  
**अरुण ग्रह**  
 अरुण ग्रह 7.12 ⇨  
**अरुणपूड**  
 नर पुरगी 126.65  
**अरुणता**  
 लालिमा 289.18  
**अरुणनेत्र**  
 कबूतर 126.16  
**अरुण प्रिया**  
 छाया 774.36  
 संज्ञा 774.94  
**अरुणसारथी**  
 सूर्य 8.1  
**अरुणा**  
 अप्सरा सूची 782.3  
 अरुणा 774.9 ⇨  
 उषा 774.14  
 प्रातः लालिमा 287.14  
**अरुणाचल**  
 अरुणाचल प्रदेश 28.9  
**अरुणाचल प्रदेश**  
 अरुणाचल प्रदेश 28.9 ⇨  
**अरुणाचलः राजधानी**  
 अरुणाचलः राजधानी 28.10 ⇨  
**अरुणात्मज**  
 अश्विनी कुमार 773.3

कर्ण 771.47  
 सुग्रीव 781.17  
**अरुणात्मजा**  
 यमुना 20.18  
**अरुणाथ**  
 मरुत 781.1  
**अरुणि**  
 ऋषि मुनि सूची 789.17  
 ब्रह्माः पुत्र सूची 786.10  
**अरुणिम**  
 लाल 289.60  
**अरुणिमा**  
 प्रातः लालिमा 287.14  
 लालिमा 289.18  
 सूर्य लालिमा 287.13  
**अरुणोदय**  
 सूर्योदय 5.8  
**अरुषिर**  
 रुषिरहीन 131.18  
**अरुष**  
 क्रोधहीन 372.13  
**अरुषी**  
 उषा 774.14  
**अरुषकर**  
 काजू 191.4  
**अरुष्य**  
 अग्रचलित 515.10  
**अरुषिगत**  
 अपारंपरिक 795.14  
**अरुषिगतता**  
 अपारंपरिकता 795.3  
**अरुष्य**  
 असुंदर 156.3  
 कुरूप 156.4  
 निराकार ईश्वर 764.8  
 निर्गुण ब्रह्म 764.28  
**अरुष्यता**  
 निराकारता 967.2  
**अरुष्य ब्रह्म**  
 निर्गुण ब्रह्म 764.28  
**अरुष्यतरित शब्द**  
 अरुष्यतरित शब्द 423.11 ⇨  
**अरुष्यथित**  
 अनगड 545.28  
**अरुष्यथित**  
 अनगड 545.28  
**अरुष्य**  
 असुर सूची 783.8  
**अरुष्य (ऋ)**  
 बंदीकरण 888.1  
**अरुष्य करना**  
 बंदी बनाना 888.29  
**अरुग**  
 धिक्कितित 171.19  
**अरुगक**  
 अपठनीय 401.12  
 अरोचक 401.10 ⇨  
 असुंदर 156.3

अस्वादिष्ट 275.21  
**अरोचकता**  
 अरोचकता 401.1 ⇨  
**अरोचक लगना**  
 अरोचक लगना 401.6 ⇨  
**अरोषित**  
 अवरोधहीन 1049.13  
**अरोम**  
 रोमहीन 135.12  
**अरोम**  
 विष्णु 768.1  
**अरु**  
 अग्नि 106.1  
**अरु**  
 अरिष्ट 176.11  
 अरु 84.13 ⇨  
 आसव 84.15  
**अरु**  
 इन्द्र 773.5  
 टिक्कर 176.17  
**अरु**  
 निष्कर्षः प्रकार सूची 84.2  
**अरु**  
 प्रकारा 287.1  
 सूर्य किरण 288.3  
**अरुकांता**  
 जवा कुसुम 14.17  
**अरुगीर**  
 पगडीः नीचे की टोपी 584.27  
**अरुऊन**  
 अश्विनी कुमार 773.3  
 कर्ण 771.47  
 शनि ग्रह 7.8  
 सुग्रीव 781.17  
**अरुऊजा**  
 तापती 20.15  
 यमुना 20.18  
**अरुऊनयन**  
 विराट पुरुष 764.22  
**अरुऊवपु**  
 कमल 14.4  
 गीतम बुद्ध 793.1  
**अरुऊपका**  
 जवा कुसुम 14.17  
**अरुऊरिपु**  
 राहु 6.4  
**अरुऊरणी**  
 अति परिश्रम 493.3  
**अरुऊसुत**  
 अश्विनी कुमार 773.3  
 यमराज 256.1  
 सुग्रीव 781.17  
**अरुऊसुतवर**  
 ऐरावत 780.5  
**अरुऊल**  
 अर्गल 609.18 ⇨  
**अर्गला**  
 अर्गल 609.18

## अर्घ

### अर्घ

अर्घ्य 750.5  
 मूल्य 664.1  
 शिवलिंगः अरघा 746.15  
 अर्घदान  
 अर्घदान 1059.16 ⇨  
 अर्घ संख्यान  
 मूल्य नियंत्रण 664.18  
 अर्घहीनता  
 निरशुल्कता 665.3  
 अर्घापचय  
 मूल्य क्षयण 664.15  
 अर्घश्वर  
 शिव 767.1  
 अर्घ्य  
 अर्घदान 1059.16  
 अर्घ्य 750.5 ⇨  
 उपहार 640.2  
 पूजनीय 751.24  
 सम्मान्य 854.20  
 अर्घ्य पाद्य  
 बोटशोपचार सूची 750.4  
 अर्घक  
 पूजक 751.3  
 अर्घन  
 नवधा भक्ति सूची 752.6  
 पूजन 751.2  
 अर्घना  
 पूजा 751.1  
 पूजा करना 751.22  
 अर्घना करना  
 पूजा करना 751.22  
 अर्घनीय  
 पूजनीय 751.24  
 अर्घा  
 देव मूर्ति 746.1  
 दिष्णु मूर्ति 746.6  
 अर्घि  
 अग्नि ज्वाला 106.8  
 प्रकारा किरण 288.1  
 अर्घित  
 सम्मानित 854.19  
 अर्घिष्मान  
 अग्नि 106.1  
 देव योनि सूची 772.37  
 अर्घी  
 पूजक 751.3  
 अर्घ्य  
 पूजनीय 751.24  
 अर्घ  
 कपर्दाः चौड़ाई 965.5  
 चौड़ाई 965.4  
 निवेदन 350.1  
 प्रार्थना 350.4  
 अर्घक  
 अर्घक 648.9 ⇨  
 स्मारण पत्र 356.9

### अर्जन

अर्जन 648.1 ⇨  
 अर्जन करना  
 अर्जित करना 648.4  
 अर्जन न करना  
 अर्जन न करना 649.5 ⇨  
 अर्जनहीन  
 अनर्जक 649.9  
 अर्जनहीनता  
 अनर्जन 649.1  
 अर्जनहीन श्रमिक  
 बेगार श्रमिक 643.21  
 अर्जित  
 अर्जित 648.8 ⇨  
 शिक्षार्जित 321.49  
 अर्जित अवकाश  
 अर्जित अवकाश 494.9 ⇨  
 अर्जित आय  
 अर्जित आय 643.4 ⇨  
 अर्जित करना  
 अर्जित करना 648.4 ⇨  
 अर्जित कराना  
 अर्जित कराना 648.5 ⇨  
 अर्जित संपत्ति  
 अर्जित संपत्ति 624.5 ⇨  
 अर्घी  
 निवेदन पत्र 350.3  
 पद आवेदन 653.3  
 पद आवेदन पत्र 653.5  
 प्रार्थना पत्र 350.5  
 याधिका 875.15  
 अर्घी बाबा  
 याधिका 875.15  
 अर्घी नवीस  
 याधिका लेखक 874.31  
 अर्घीनामा  
 निवेदन पत्र 350.3  
 पद आवेदन पत्र 653.5  
 प्रार्थना पत्र 350.5  
 अर्घी नालिहा  
 याधिका 875.15  
 अर्जुन  
 अर्जुन 771.36 ⇨  
 कार्तवीर्य 769.31  
 चौंटी 95.3  
 पंच पांडव सूची 771.29  
 मोर 126.68  
 अर्जुन देव  
 सिख गुरु सूची 794.2  
 अर्जुन धनुष  
 अर्जुनः धनुष 771.39 ⇨  
 अर्जुन क्षत्र  
 हनुमान 781.19  
 अर्जुनः नृप शिष्या  
 उत्तरा 771.43  
 अर्जुनः पत्नी सूची  
 अर्जुनः पत्नी सूची 771.38 ⇨

### अर्जुनः पिता

अर्जुनः पिता 771.37 ⇨  
 अर्जुनः प्रवीर  
 जनमेजय 771.55  
 अर्जुन सखा  
 कृष्ण 771.1  
 अर्जुनः सारथी  
 अर्जुनः सारथी 771.40 ⇨  
 अर्जुनोपदेश  
 गीता 740.14  
 अर्जुनोपन  
 सागीन 13.25  
 अर्जुन (औं)  
 शीघ्र करणीय 496.10  
 अर्ण  
 जल 88.1  
 धारा 21.14  
 लहर 1040.17  
 सागीन 13.25  
 अर्णव  
 इंद्र 773.5  
 ऊँची लहरों वाला 1040.33  
 धारः उपमान सूची 948.24  
 धारा 21.14  
 समुद्र 24.1  
 अर्णव नैवि  
 पृथ्वी 9.1  
 अर्णव पति  
 महा समुद्र 24.4  
 अर्णव पोत  
 समुद्र पोत. 1072.40  
 अर्णव मंथिर  
 वरुण 773.43  
 अर्णव मल  
 समंदर झाग 87.18  
 अर्णव यान  
 समुद्र पोत 1072.40  
 अर्णवोद्भवा  
 लक्ष्मी 775.1  
 अर्णा  
 नदी 20.1  
 अर्णाव  
 मेघ 55.1  
 अर्ति  
 धनुषः छोर 926.14  
 अर्ध  
 अर्ध 428.1 ⇨  
 इन्द्रियार्थ 268.9  
 इच्छा 359.1  
 उद्देश्य 508.2  
 कारण 507.3  
 घतुर्वर्ग सूची 761.23  
 त्रिद्वर्ग सूची 761.21  
 धन 628.1  
 धन संपत्ति 624.10  
 प्रयोजन 508.1  
 मूल्य 664.1  
 स्वार्थ 712.5

### -अर्ध (औंसेः ऋयार्थ)

कारणतः 507.7  
 -अर्ध (संक्षिप्त बोलचाल)  
 अधिग 102.15  
 -अर्धक  
 अर्धीय 428.26  
 अर्धक  
 याचक 642.19  
 अर्ध कल्याण  
 शुभ लाभ 648.3  
 अर्धकाम  
 धन इच्छुक 628.24  
 अर्धकोश  
 शब्दकोश 446.12  
 अर्धगत  
 अर्धीय 428.26  
 अर्ध ग्रहण  
 अभिधा क्रिया 399.13  
 अर्ध ग्रहण 427.2 ⇨  
 अर्ध ग्रहण करना  
 अर्ध ग्रहण करना 427.21 ⇨  
 अर्धतः  
 अर्थात् 426.41  
 अर्ध वंड  
 अर्ध वंड 870.7 ⇨  
 अर्धव  
 धनप्रद 628.27  
 लाभप्रद 646.16  
 अर्ध दूषण  
 आठ अवगुण सूची 761.13  
 अर्ध दोष  
 अर्ध दोष 453.7 ⇨  
 अर्ध द्योतक  
 अर्ध द्योतक 427.23 ⇨  
 अर्ध द्योतन  
 अर्ध द्योतन 427.1 ⇨  
 अर्ध ध्वनि  
 व्यंजनार्थ 428.6  
 अर्धना  
 याचना 642.1  
 अर्ध निरूपण  
 व्याख्यायन 427.16  
 अर्धपति  
 कुशेर 779.4  
 अर्ध पिशाच  
 धन लोलुप 628.26  
 अर्धपूर्ण  
 अर्धयुक्त 426.27  
 उपयोगी 524.18  
 प्रयोजनपूर्ण 508.6  
 अर्धपूर्वक  
 उद्देश्यपूर्वक 508.12  
 अर्ध प्रदान  
 विरतीय सहायता 633.2  
 अर्ध बोध  
 अर्ध ग्रहण 427.2  
 अर्ध बोधन  
 अर्ध द्योतन 427.1



अर्थ षण  
अर्थ दोष 453.7  
अर्थ श्रंत  
असफलता 513.1  
अर्थयुक्त  
अर्थयुक्त 426.27 ⇨  
अर्थवत्ता  
धनाढ्यता 826.3  
अर्थ वायर (अं)  
अर्थिग 102.15  
अर्थ विशादीकरण  
व्याख्यायन 427.16  
अर्थ विस्तार  
अर्थ विस्तार 426.16 ⇨  
अर्थव्यक्ति  
काव्य गुण सूची 453.4  
अर्थ व्याख्या  
व्याख्या 427.15  
अर्थ शक्ति  
शब्द शक्ति 426.2  
अर्थ संकुचन  
अर्थ संकुचन 426.17 ⇨  
अर्थ समझाना  
व्याख्या करना 427.22  
अर्थ सहाय  
वित्तीय सहायता 833.2  
अर्थ तिष्ठि  
सफलता 512.1  
अर्थहीन  
अर्थहीन 426.28 ⇨  
उद्देश्यहीन 509.4  
निर्धन 627.20  
प्रयोजनहीन 509.3  
अर्थहीनता  
उद्देश्यहीनता: 509.8  
अर्थहीनता  
उद्देश्यहीनता 509.2  
प्रयोजनहीनता 509.1  
अर्थीतर  
नई परिस्थिति 69.7  
अर्थगिन  
आय 843.1  
धन प्राप्ति 628.2  
अर्थीत  
अर्थीत 426.41 ⇨  
परिणामता: 510.15  
अर्थीकारी  
कोशाध्यय 630.12  
अर्थीकृत  
महत्त्वपूर्ण 852.8  
सारपूर्ण 84.19  
अर्थीकृति  
अध्याहरण 325.10  
परिणाम प्राप्ति 510.2  
अर्थीकृति प्रकन  
प्रमाण सूची 327.2  
अर्थीकृत  
परिणामता: प्राप्त 510.11

अर्थीकृति  
प्रयोजनार्थी 508.7  
अर्थीकृतकार  
अर्थीकृतकार 454.2 ⇨  
अर्थीकृतली  
शब्दकोश 446.12  
अर्थीग  
अर्थीग 102.15 ⇨  
अर्थीग (अं)  
अर्थीग 102.15  
अर्थीकृत  
इच्छित 369.19  
उच्छिष्ट 508.8  
प्राथिग 350.17  
याचित 642.18  
अर्थी  
अर्थ द्योतक 427.23  
प्रयोजनार्थी 508.7  
प्राथी 350.18  
याचक 642.19  
अर्थीय  
अर्थीय 426.26 ⇨  
अर्थी  
कारणता: 507.7  
अर्थीच्छा  
धन इच्छा 628.3  
अर्थीयक्षेपक  
कथा सूचना 486.15  
अर्थीन  
वध 251.3  
अर्थीना  
याचना 642.1  
अर्थीनि  
मिहा याचना 642.2  
अर्थीली  
घपरासी 652.39  
अर्थीकृत  
याचित 642.18  
अर्थी  
अर्थ मात्रिक 946.16  
आधा 849.37  
छंद 938.1  
अर्थी अंशाधिकार  
अर्थी अंशाधिकार 623.10 ⇨  
अर्थी अंशाधिकारी  
अर्थी अंशाधिकार 623.10  
अर्थी अस्वकार  
अर्थी अस्वकार 494.16 ⇨  
अर्थी कुंभ  
अर्थी कुंभ 57.4 ⇨  
अर्थी कुंभ वस्तु  
अर्थी कुंभ 57.4  
अर्थीकृत  
अपूर्ण रचित 528.8  
अर्थी केषु  
रुद्र 767.34  
अर्थी गंगा  
कावेरी नदी 20.8

अर्थ गोल  
पूगोलाय 10.4  
अर्थ चंद्र  
अनुनासिक चिह्न 410.9  
गरदगिरी 866.4  
दूज का चौद 407.15  
अर्थ चंद्र: छोर  
अर्थचंद्र: छोर 1000.6  
अर्थचंद्र: छोर  
अर्थचंद्र: छोर 1000.6 ⇨  
अर्थ चंद्रना  
अर्थ चंद्रना 8.6 ⇨  
अर्थ चंद्रना: छोर  
अर्थ चंद्रना: छोर 8.7 ⇨  
अर्थचंद्रनाकार  
नवचंद्रनाकार 974.21  
अर्थचंद्रनाकारता  
नवचंद्रनाकारता 974.7  
अर्थ चक्र  
अर्थ परिधि 972.8  
अर्थ जानवनी  
कावेरी नदी 20.8  
अर्थ तत्सम शब्द  
उद्गमानुसार शब्द सूची 423.4  
अर्थता  
अर्थाशता 949.17  
अर्थ देव  
देव योगि 772.36  
अर्थ देवता  
देव योगि 772.36  
पिराश 766.8  
अर्थ धातु  
धात्विय 92.5  
अर्थ नग्न  
अर्थ नग्न 590.17 ⇨  
अर्थ नग्नता  
अर्थ नग्नता 590.6 ⇨  
अर्थ नयन  
तीसरा नेत्र 141.2  
अर्थनरनारी वपु  
अर्थनारीनर वपु 764.33  
अर्थनारीश्वर 767.27  
अर्थनारीनर वपु  
अर्थनारीनर वपु 764.33 ⇨  
अर्थनारीश्वर 767.27  
अर्थनारीनर वपु: उत्पत्ति  
अर्थनारीनर वपु: उत्पत्ति 764.34 ⇨  
अर्थनारीनर वपु: नारी छंद-कुंभ पत्र  
प्रज्ञा 774.53  
अर्थनारीनर वपु: पुरुष छंद  
रुद्र 767.34  
अर्थनारीनर वपु: पुरुष छंद: 11 ऋग  
ग्यारह रुद्र 767.35  
अर्थनारीश  
अर्थनारीश्वर 767.27  
अर्थनारीश्वर  
अर्थनारीश्वर 767.27 ⇨  
शिव 767.1

अर्थनारीश्वरा  
पार्यती 776.9  
अर्थ निरा  
मध्य रात्रि 48.11  
अर्थ पक्व  
अल्प पक्व 195.79  
अर्थ परिचालित  
अर्थ नग्न 590.17  
अर्थ परिधि  
अर्थ परिधि 972.8 ⇨  
अर्थ पारावत  
तीतर 126.43  
अर्थ प्रकाश  
अर्थ प्रकाश 287.10 ⇨  
धुंयलका 286.4  
अर्थ प्रगाढ़  
अर्थ प्रगाढ़ 80.9 ⇨  
अर्थ प्ररुदित  
अर्थ प्ररुदित 119.11 ⇨  
अर्थ विंदु  
अर्थ विंदु 971.3 ⇨  
अर्थ भाग  
अर्धाश 949.18  
अर्थ मंडल  
अर्थ परिधि 972.8  
अर्थ महाकल्प  
अर्थ महाकल्प 40.8 ⇨  
अर्थ मात्रा  
ह्रस्व मात्रा 410.19  
अर्थ मात्रिक  
अर्थ मात्रिक 946.16 ⇨  
अर्थ मानव  
अधिवानर 127.90  
अर्थ नास  
नास: पक्ष 45.1  
अर्थ नासिक  
पासिक 71.18  
अर्थ नुकलित  
अर्थ नुकलित 120.9 ⇨  
अर्थ नृत  
अर्थ नृत 249.30 ⇨  
अर्थ रात्रि  
मध्य रात्रि 48.11  
अर्थरिक्त  
अर्थरिक्त 1005.8 ⇨  
अर्थ दर्वीय  
वर्णनासिक 71.21  
अर्थ दार्धिक  
वर्णनासिक 71.21  
अर्थ विराम  
अर्थ विराम 425.33 ⇨  
अर्थ विराम (,)  
अर्थ विराम 425.33  
अर्थ वृत्त  
अर्थ परिधि 972.8  
अर्थ व्यंजन  
हलंत (वर्ण) 410.25

## अर्थ व्यास

अर्थ व्यास 972.14 ⇨

### अर्थ शतक

पद्यास 948.65

### अर्थ शताब्दी

पद्यास वर्ष 42.23

### अर्थ राती

पद्यास 948.65

### अर्थ सत्य

अर्थ सत्य 821.7 ⇨

### अर्थ समकोण

अर्थ समकोण 970.7 ⇨

### अर्थस्वर वर्ण

अंतस्वर वर्ण 411.12

### अर्थांग

पक्षाघात 264.11

### अर्थांगिनी

पत्नी 803.6

### अर्थांगी

शिव 767.1

### अर्थाशा

अर्थाशा 949.18 ⇨

### अर्थाशता

अर्थाशता 949.17 ⇨

### अर्थासु (प्र)

धात्विद 92.5

### अर्थासुनासिक

अनुनासिक चिह्न 410.8

### अर्थासु

अधेरता 232.1

### अर्थासु

चौधार्थ 949.39

### अर्थाली

काव्य पदांश सूची 452.48

### अर्थावस्था

अधेरता 232.1

### अर्थाविक

अर्थ मात्रिक 946.16

### अर्थेवु

अर्थ चंद्रमा 8.6

### अर्थेवुभूषण

शिव 767.1

### अर्थेवुमीलि

शिव 767.1

### अर्थापण चावल

उसना चावल 187.10

### अर्थ लीब (अ)

अजित अयकाश 494.9

### अर्थक

उपहार प्रदाता 640.15

चक्रावा चक्राने वाला 750.18

प्रदाता 638.15

### अर्थण

उपहार प्रदान 640.1

चक्रावा 750.12

दान 641.1

परास 183.19

प्रदान 638.1

बलि कर्म 754.1

बलि वस्तु 754.2

### अर्थण कर्ता

प्रदाता 638.15

### अर्थणा

उपहार 640.2

### अर्थणीय

उपहार्य 640.14

### अर्थधिता

उपहार प्रदाता 640.15

चक्रावा चक्राने वाला 750.18

### अर्थित

उपहृत 640.13

चक्रावा चक्रा 750.17

दान दत्त 641.23

प्रदत्त 638.14

### अर्थित करना

उपहार में देना 640.11

बलि करना 754.18

### अर्थित बलि

बलि वस्तु 754.2

### अर्थित होना

आत्मबलि देना 754.19

### अर्थ्य

उपहार्य 640.14

### अर्थ्य

दस करोड़ 948.78

### अर्थ्य

अर्थ्य 166.1 ⇨

मेघ 55.1

शोध 166.8

### अर्थक

कुशा घास 11.8

पशु शिशु 230.11

लार्वा 242.6

### अर्थ

उत्तम 313.13

दयालु 834.12

प्रिय 389.7

महान 839.8

रोचक 400.12

वैश्य 731.24

सत्यवादी 820.22

सम्मान्य 854.20

### अर्थना

अर्थना 263.28 ⇨

अर्थना 773.2 ⇨

घनिष्ठ मित्र 704.14

बारह आदित्य सूची 777.4

सूर्य 8.1

### अर्थना पद्य

आकाश गंगा 1.14

### अर्थ्या

रखेली 806.7

वैश्य स्त्री 731.25

### अर्थ्याणी

वैश्य स्त्री 731.25

### अर्थी

वैश्य स्त्री 731.25

### अर्थट

राख 108.15

### अर्थती

मादा घोड़ा 127.36

### अर्वाक-

परघतः 995.18

### अर्वाचीन

आधुनिक 64.7

नवीन 64.10

निकट भूत कालीन 36.19

वर्तमान कालीन 36.21

### अर्वाचीनता

आधुनिकता 64.1

### अर्श

आकाश 2.1

गुदाबुद 166.2

छत 611.11

### अर्श कर्श

घरती आकाश 2.2

### अर्शी

आकाशीय 2.7

### अर्शत

उत्तम 313.13

गीतम बुद्ध 793.1

तीर्थकर 792.1

### अर्श

इंद्र 773.5

उपयोगी 524.18

मूल्य 664.1

संगत 438.6

सम्मान्य 854.20

### अर्शणा

सम्मान 854.3

### अर्शत

अभिनंदित 854.21

अर्शत 744.40 ⇨

ख्यात 847.3

गीतम बुद्ध 793.1

तीर्थकर 792.1

पूजित 751.23

प्रशंसित 841.29

बोधिसत्त्व 793.15

महाज्ञानी 305.31

शिव 767.1

### अर्शिता

अपेक्षा 359.3

अर्शिता 303.3 ⇨

उपयोगिता 524.6

संगतता 438.1

सुपात्रता 303.2

### अर्शितासंपन्न

अर्शितासंपन्न 303.16 ⇨

### अर्शिता संपन्न

अर्शितासंपन्न 303.16

### अर्शित्य

तीर्थकर सूची 792.2

### अर्श

अपेक्षा 359.3

सम्मान 854.3

### अर्शित

पूजित 751.23

प्रशंसित 841.29

सम्मानित 854.19

### अर्शित होना

अपेक्षित होना 359.11

### अर्श्य

पूजनीय 751.24

प्रशंसनीय 841.30

सम्मान्य 854.20

### अर्श

अर्श 941.10 ⇨

### अर्शक टंकटा

असुरादि जोड़ी सूची 783.4

### अर्शकरण

अर्शकरण 227.1 ⇨

अर्शकार प्रदान 854.12

कर्दाई कर्म 577.12

### अर्शकरण (दे.)

शोभान्वयन 226.2

अर्शकरोति इति अर्शकार

काव्य अर्शकार 454.1

### अर्शकार

अर्शकार 854.13 ⇨

आभूषण 228.1

कर्दाई काम 577.14

काव्य अर्शकार 454.1

शिक्षा उपाधि 322.26

### अर्शकार धारण

सोलह सिंगार सूची 222.3

### अर्शकारपूर्ण

कलापूर्ण 402.3

### अर्शकारपूर्णता

कलापूर्णता 402.1

### अर्शकार प्रदान

अर्शकार प्रदान 854.12 ⇨

### अर्शकारबाध

हिंदी काव्य सिद्धांत सूची 453.12

### अर्शकार शास्त्र

काव्य शास्त्र 453.1

### अर्शकारहीन

अनलंकृत 227.5

### अर्शकारहीनता

अनलंकृतता 227.2

### अर्शकारी

दिखावटी 825.5

### अर्शकृत

अर्शकृत 854.23 ⇨

अर्शकृत 227.4 ⇨

रुंगारित 222.17

### अर्शकृत (दे.)

शोभायुक्त 228.11

### अर्शकृत करना

अर्शकृत करना 854.17 ⇨

अलंकृत भाषा	गुप्त 824.20	प्रालंबन सूची 1024.5	अलग्नता
अलंकृत भाषा 421.21 ⇨	अलक्ष्मी	रस्ती सूची 570.6	विलग्नता 1011.2
अलंकृत होना	दरिद्रा 775.8	अलग पहचान	बीज गणित 953.4
अलंकृत होना 227.3 ⇨	अलक्ष्य	व्यक्तित्व 836 1	अलज्ज
अलंघ्य	अपरिभाष्य 317.20	अलग रखा पता	लज्जाहीन 846.8
अगम्य 519.25	ईश्वर 764.1	छिपा पता 478.20	अलट पलट
अलंपट	तर्कातीत 306.15	अलग रहना	विमर्श 330.11
सध्यरित्र 810.5	निराकार ईश्वर 764.8	दांपत्य परित्याग करना 804.20	अलटा पलटी
अलंबुष	विलुप्त 824.24	पृथक रहना 897 9	प्रतिस्थापना 1036.8
अंजलि पात्र 150 3	अलख	मिश्रित न होना 1008.24	विनिमय 636.3
राक्षस सूची 784 4	अदृश्यमान 282.20	अलग समय	अलबत्ता
अलंबुषा	निराकार ईश्वर 764.8	भिन्न काल 60.1	अवरयमेव उक्ति सूची 68.23
अप्सरा सूची 782 3	अलख जगाना	अलग से	संदेहहीनतः 340.23
विद्याधर स्त्री 779 16	मिक्षा मौगना 642.15	अतिरिक्त 945 7	हाँ 337.29
अल	अलख निरंजन	अलग होना	अलबम
विष्णुः डक 144 13	ईश्वर 764 1	अलगीझा होना 699.13	अलबम 415.20 ⇨
अलक	अलग	तटस्थ होना 887.8	अलबम 669.7 ⇨
केस 137 1	अतिरिक्त 945 4	तलाक देना 804.23	अलबम (अँ)
घुंघराले केस 137 13	अनुपम 312 17	दांपत्य परित्याग करना 804.20	अलबम 669.7
लट 223.15	अभिप्रित 1008 30	फटना 544.15	असवी तलबी
अलकृत	अलगीझा कृत 699.19	मित्रता टूटना 705.24	क्लिष्ट भाषा 421.22
निरसन 338 9	असदृश 310.6	विघटित होना 544.12	अलबेट
हत्या 251 5	इतर 945 5	विदा होना 1058 4	अलबेट 975.10 ⇨
अलकृत क्रिस्ता	एकताहीन 699.14	वियोग होना 388.5	लपेट 575 1
सारांशत 449 33	छँटा [छँटी] 1009.20	विलग होना 1011.3	अलबेला [अलबेली]
अलकनंदा	तटस्थ 887 11	सामान्य न होना 312.10	अलमस्त 382.23
गंगा नदी 20 10	दूरी पर 32.10	हटना 32 6	आनंदशील 382.19
भारत उपमहाद्वीप नदी सूची 20 7	विभाजित 699 16	अलगाना	बाँका [बाँकी] 880.23
अलक पाश	विलक्षण 312 16	छाँटना 1009.15	विलक्षण 312.16
लट 223 15	विलान 1011 5	विलग करना 1011.4	सुंदर 157.7
अलकप्रभा	वैयक्तिक 689 3	अलगाव	अलबेलापन
कुबेर. नगर अलकापुरी 779 8	व्यक्तिश 689 4	अतिरिक्तता 945.1	अलमस्ती 382.7
अलक लक्ष्मी [अलक लक्ष्मी]	सामंजस्यहीन 701.9	अश्रुण 1008.17	बाँकपन 860.7
अत्यधिक लाक 721 16	हटा [हटी] 32.9	एकता भंग 699.2	अलब्ध
अलक सलोरा [अलक सलोरी]	अलग अलग	दांपत्य विच्छेद 804.6	अप्राप्त 639.24
अत्यधिक लाक 721.16	एकताहीनतः 699.20	द्वैत भाव 752.9	अलब्धि
अलका	सुदं में 666 16	परिवार विभाजन 699.4	अप्राप्ति 639.7
कुबेरः नगर अलकापुरी 779 8	भिन्न काल में 80 15	वियोग 388 1	अलभ्य
अलकापुरी	विलगतः 1011.7	विलग्नता 1011 2	अनुपलब्ध 942.18
कुबेरः नगर अलकापुरी 779.8	व्यक्तिशः 689.4	विलग्नन 1011.1	ईश्वर 764.1
अलकावली	अलग करना	हटापन 32.3	दुर्लभ 942.19
घुंघराले केस 137.13	ध्यत करना 653.27	अलगभव लेना	मुल्यातीत 684.30
लट 223.15	छाँटना 1009.15	दांपत्य परित्याग करना 804.20	अलभ्यता
अलकेस	दूर करना 32.5	अलगाववाह	अनुपलब्धता 942.4
इंद्र 773.5	वियोग करना 388.6	अलगाववाद 697.2 ⇨	अलग
अलकेश्वर	विलग करना 1011.4	अलगाववादी 697.13 ⇨	ध्याजा 408.4
कुबेर 779.4	स्तन त्याग कराना 207.18	अलगाववादी	अलमक
अलक	अलग तरह का	अलगाववादी 697.13 ⇨	रक्षात स्त्री सूची 784.23
लाक्षा 290.26	असदृश 310.6	अलगाववादी	अलमनाक
अलकक	अलग धरण	अलगाववादी 697.13 ⇨	अलमनाक 41.3 ⇨
महावर 225.32	तटस्थ 887.11	अलगाववादी 697.13 ⇨	अलग दरवार
अलक्षण	दूरी पर 32.10	अलगाववादी 697.13 ⇨	ध्याजा वाहक 408.18
निराकार 687.13	नितांत एकाकी 697.15	अलगाववादी 697.13 ⇨	पक्षधर 885.33
अलक्ष्मीकला वाची	विलगतः 1011.7	अलगाववादी 697.13 ⇨	अलग दरवारी
हिंदी काव्य सिद्धांत सूची 453.12	अलग न होना	अलग	ध्याजा वहन 408.8
अलक्षित	अलग न होगा 1010.18 ⇨	अलग	अलमस्त
अनवलोकित 284.49	अलगनी	अलग	अलमस्त 382.23 ⇨
अपरिभाषित 317.18	अलगनी	अलग	
	अलगनी 1024.6 ⇨	अलग	

## अल्पाधिकता

अल्पाधिकता  
 अल्पाधिकता 941.4 ⇨  
 अल्पायु  
 अल्प कालीन 38.8  
 अल्पायु 229.18 ⇨  
 अल्पायुता  
 अल्पायुता 229.5 ⇨  
 अल्पायुवी  
 अल्प कालीन 38.8  
 अल्पायुष्य  
 अल्प कालीनता 38.3  
 अल्पायुता 229.5  
 अल्पाशान  
 डायटिंग 182.6  
 अल्पाहार  
 अल्पाहार 182.5 ⇨  
 उपाहार 200.1  
 अल्पाहारी  
 अल्पाहारी 182.16 ⇨  
 अल्पित  
 लघुकृत 980.23  
 अल्पिच्छता  
 अत्यल्पता 942.2  
 अल्पीकरण  
 लघुकरण 980.4  
 अल्पीयता  
 अत्यल्पता 942.2  
 अल्पीच्छ  
 संतोषशील 360.19  
 अल्पोक्ति  
 अल्पोक्ति 434.3 ⇨  
 अल्पोष्य  
 अल्पोष्य 982.9 ⇨  
 अल्पोष्यता  
 अल्पोष्यता 982.2 ⇨  
 अल्ल  
 गोत्र 729.1  
 अल्लन गल्लन  
 बकवासपूर्ण 428.25  
 अल्ल चुचक नाम  
 वंश नाम 315.7  
 अल्ला  
 अल्लाह 764.12  
 पराशक्ति 776.21  
 अल्लाती  
 सीतेले भाई बहन 723.21  
 अल्लाना  
 महा विद्वान 319.3  
 मौलवी 744.24  
 अल्लाह  
 अल्लाह 764.12 ⇨  
 अल्लाह (बे.)  
 ईश्वर 764.1  
 अल्लाह ताला  
 अल्लाह 764.12  
 अल्लाह वाला  
 धर्मशील 735.13

अल्लाह वाला होना  
 धर्मशील होना 735.10  
 अल्लाही  
 अल्लाही 764.38 ⇨  
 अल्लाहो अकबर  
 अल्लाहो अकबर 741.30 ⇨  
 अल्लर (औं)  
 नासूर 187.3  
 अल्लह  
 अनुभवहीन सरल 817.9  
 अलमस्त 382.23  
 अवयस्क 229.22  
 नवयुवक 231.2  
 सरल 817.8  
 अल्लह जवानी  
 नवयौवन 231.1  
 अल्लहकता  
 नवयौवन 231.1  
 अल्लहकपन  
 अलमस्ती 382.7  
 नवयौवन 231.1  
 अवध्य  
 जननक्षम 238.12  
 अवध्यता  
 जनन क्षमता 238.1  
 अवंश  
 निम्न कुल 728.8  
 निस्संतान 240.9  
 वंशानष्ट 727.42  
 अवंशगतता  
 अदायागतता 623.20  
 अवंशागत  
 अदायागत 623.28  
 अवंशानुगत  
 अपारंपरिक 795.14  
 अवंशानुगतता  
 अपारंपरिकता 795.3  
 अवकण  
 मोलक्यूल 78.21  
 अवकर  
 कृपा 214.3  
 अवकर्षण  
 अधोर्कर्षण 1082.21  
 अवकर्षित  
 अधोर्कर्षित 1082.39  
 अवकलना  
 बोध करना 301.18  
 अवकारा  
 अंतराल 33.9  
 अवकाश अनुमति 494.8  
 अवकाश दिवस 494.14  
 अव्यस्ताता 503.4  
 गुणाद्भूत 33.8  
 छिद्र 271.6  
 दीर्घ अवकाश 494.17  
 धारण क्षमता 986.4  
 पोल 271.17  
 विदर 544.4

विश्राम काल 494.2  
 शून्य स्थान 33.4  
 स्थान 33.1  
 अवकाश अनुमति  
 अवकाश अनुमति 494.8 ⇨  
 अवकाश दिवस  
 अवकाश दिवस 494.14 ⇨  
 अवकाश न होना  
 व्यस्त होना 502.8  
 अवकाशपूर्ण  
 अवकाशपूर्ण 494.23 ⇨  
 अवकाश प्राप्ति  
 सेवा नियुक्ति 653.18  
 अवकाशाहीन  
 व्यस्त 502.13  
 सटा [सटी] 31.8  
 अवकाशाहीनता  
 व्यस्ताता 502.4  
 सटापन 31.2  
 अवकिरण  
 विखराव 668.1  
 अवकीर्ण  
 विखरा [विखरी] 668.25  
 अवकीलक  
 दीवार: सूँटी 1016.17  
 सूँचा 559.36  
 अवकुचन /  
 खिचन 392.9  
 मरोचन 975.12  
 संकुचन 980.9  
 अवकुचित  
 मरोडा [मरोडी] 975.30  
 संकुचित 980.26  
 अवकृष्ट  
 अधोर्कर्षित 1082.39  
 अवकृष्य  
 अकथनीय 429.21  
 अवक  
 अवक 974.17 ⇨  
 अवक करना  
 अवक करना 974.15 ⇨  
 अवक गति  
 सीधी गति 1098.10  
 अवक जाना  
 दिशा न बदलना 1098.17  
 अवकलतः  
 सीधे 1098.32  
 अवकता  
 अवकता 974.2 ⇨  
 सीध 974.9  
 अवकन  
 अधोगमन 1031.6  
 अवरोह क्रम 991.4  
 अवकनतः  
 अवरोहतः 991.30  
 अवकनिक  
 अवरोह क्रमिक 991.23

अवकथ्य  
 भाडा क्रय 860.7  
 अवकीलक  
 उधार (संपत्ति) 624.18  
 अवकोश  
 शाप प्रदान 713.2  
 अवलयण  
 मूल्य क्षयण 664.15  
 अवक्षिप्त  
 अधोक्षिप्त 1052.24  
 अवर्षावन  
 मंजन 539.1  
 अवखात  
 गहरा गड्ढा 15.2  
 अवगणना  
 असत्कार 185.1  
 निंदा 843.1  
 अवगणित  
 अपमानित 855.11  
 अवकाकृत 348.6  
 असत्कृत 185.6  
 अवगण्य  
 अपमान्य 855.12  
 अवगत  
 प्राप्त (बोध) 301.28  
 संज्ञात 441.18  
 संज्ञापित 441.19  
 अवगमन  
 अस्तगमन 5.10  
 अवगहन  
 गहन अध्ययन 321.24  
 अवगाह  
 गहरा [गहरी] 984.7  
 सूबा [सूबी] 1031.31  
 जोब 1031.12  
 अवगाह  
 गहरी खोज 336.6  
 सूब 1031.9  
 पैठ 1094.14  
 स्नानघाट 221.21  
 अवगाहन  
 चुपकी कर्म 1031.11  
 अवगाहना  
 गहरी खोज करना 336.19  
 चुपकी लगाना 1031.21  
 मंथन करना 554.21  
 विचार करना 330.13  
 अवगाहिका  
 चुपकी यान 1072.38  
 अवगाहित  
 जोब 1031.12  
 अवगाही  
 चुपकी लगाने वाला 1031.32  
 अवगीक्षरन  
 वेग रोधन 1043.8  
 अवगुठन  
 अवगुठन 591.2 ⇨  
 पूँपट 591.3

परदानशीनी 591.1  
**अवगुंठन करना**  
 अवगुंठन करना 591.9 ⇨  
**अवगुंठन कर्म**  
 अवगुंठन 591.2  
**अवगुंठनवती**  
 अवगुंठनवती 591.12 ⇨  
**अवगुंठनहीनता**  
 वेपदीनी 590.12  
**अवगुण**  
 अवगुण 761.11 ⇨  
 दुर्गुण 314.4  
**अवगुण वर्णन**  
 निदान 843.2  
**अवगुणी**  
 दुर्गुणी 314.8  
**अवगुह्न**  
 गोपन 824.1  
**अवग्रह**  
 प्लुत मात्रा चिह्न 410 18  
 संधि भंग 907.13  
**अवघर्षण**  
 घर्षण 541 1  
 मार्जन 218 8  
**अवघात**  
 आकस्मिक पात 1031.4  
 कुटाई 540 2  
**अवधूण**  
 नैवेद्य वात 85 11  
**अवधोष**  
 प्रवाद 440.6  
**अवधक**  
 अवधक 973.7 ⇨  
**अवधकिल**  
 अवधकिल 973.13 ⇨  
**अवधन**  
 वधन अदान 338.15  
**अवधन दत्त**  
 वधन अदत्त 338.47  
**अवधव**  
 पुष्य वधन 12.31  
**अवधुषित**  
 अवधुषित 1002.29  
**अवधेतन मन**  
 अवधेतन मन 352.3 ⇨  
**अवधेतना**  
 अवधेतन मन 352.3  
 अवधेतना 283.5 ⇨  
**अवधेता**  
 उच्यते 675.6  
**अवधेदक**  
 सीमा रेखा 1001.17  
**अवधेदन**  
 विच्छेदन 543.11  
**अवज्ञा**  
 अपमान कर्ता 855.13  
 अवज्ञा कर्ता 348.7

**अवज्ञातः**  
 सत्कारहीनतः 185.10  
**अवज्ञा**  
 अपमान 855.1  
 अवज्ञा 348.1 ⇨  
 उपेक्षा 185.2  
**अवज्ञा करना**  
 अपमानित करना 855.6  
 अवज्ञा करना 348.4 ⇨  
**अवज्ञा कर्ता**  
 अवज्ञा कर्ता 348.7 ⇨  
**अवज्ञाकारी**  
 अवज्ञा कर्ता 348 7  
**अवज्ञाकृत**  
 अवज्ञाकृत 348.6 ⇨  
**अवज्ञात**  
 अवज्ञाकृत 348.6  
**अवट**  
 घास से ढँका गड्ढा 252 26  
**अवदुज**  
 पृष्ठ केश 137 4  
**अवडीन**  
 ग्लाइडिंग 1081.21  
**अवडीन करना**  
 ग्लाइडिंग करना 1081 46  
**अवडीन कर्ता**  
 ग्लाइडिंग कर्ता 1081 52  
**अवर्तन**  
 आभूषण 228 1  
 टीका 228 14  
 मुकुट 584 14  
 वर 801.10  
**अवर्तनक**  
 कर्णपूर 228 8  
 टीका 228 14  
 भतीजा 722.24  
**अवर्तनन**  
 अलंकरण 227 1  
**अवर्तनित**  
 अलंकृत 227 4  
**अवर्तनस**  
 अंधकार 286.1  
**अवतरण**  
 तरंग द्रोणी 1040.14  
**अवतरण**  
 अवतरण 769.2 ⇨  
 अवरोहण 1031.6  
 आगमन 1093 1  
 उद्धारण 424.11  
 घाट 25.20  
 जन्म 248.1  
 तट अवतरण 1080.10  
 नेपथ्य पूर्ववर्ग सूची 468.18  
 नौका घाट 1069.12  
 पार तरण 1097.3  
 मंच प्रवेश 468.26  
 सहसा आगमन 1093.3  
 स्नानघाटः पैड़ी 613.5

**अवतरण क्षेत्र**  
 अवतरण क्षेत्र 1069.19 ⇨  
**अवतरण गति**  
 लैंडिंग स्पीड 1081 34  
**अवतरण पुलिन**  
 अवतरण पुलिन 1069.15 ⇨  
**अवतरण बीकन**  
 अवतरण संकेत 1074.26  
**अवतरण संकेत**  
 अवतरण संकेत 1074.26 ⇨  
**अवतरण स्थल**  
 अवतरण क्षेत्र 1069.19  
**अवतरण स्थान**  
 अवतरण क्षेत्र 1069 19  
**अवतरणिका**  
 भूमिका 447 8  
 मंगलाचरण 465 7  
**अवतरणी**  
 जैटी 1069 13  
**अवतरित**  
 अधोगत 1031 27  
 अवतरित 769.42 ⇨  
 अवतारित 1080 42  
 अवरोहित 1081 53  
 आगत 1093.11  
 सहसा आगत 1093 15  
**अवतरित होना**  
 सहसा आना 1093 8  
**अवतल**  
 नतोदर 989 9  
**अवतलता**  
 नतोदरता 989.1  
**अवतलन**  
 निथरन 1031 14  
**अवतान**  
 आच्छादन 592 1  
 वितान 600 16  
**अवतार**  
 अवतार 769 1 ⇨  
 जन्म 248.1  
 पुनर्जन्म 248.7  
 पुरुष 764.21  
 विष्णु 768.1  
**अवतारक**  
 अवतारण कर्ता 1080.41  
**अवतार काल**  
 आयु 229.1  
 जन्म काल 248 3  
**अवतारण**  
 जल अवतारण 1080.9  
 यान अवतारण 1080.8  
**अवतारण करना**  
 अवतारण करना 1080.36 ⇨  
**अवतारण कर्ता**  
 अवतारण कर्ता 1080.41 ⇨  
**अवतारण यान**  
 लैंडिंग क्राफ्ट 1072.50

**अवतार लेना**  
 अवतार लेना 769.40 ⇨  
 जन्म लेना 248 8  
**अवतारवाद**  
 अवतारवाद 760.12 ⇨  
**अवतारित**  
 अवतारित 1080.42 ⇨  
**अवतारी**  
 अवतरित 769 42  
 अवतार 769.1  
**अवतारीय**  
 अवतारीय 769 41 ⇨  
**अवतीर्ण**  
 अवतरित 769 42  
 अवतारित 1080.42  
 अवरोहित 1081.53  
 जलायनरित 1080.43  
 पारकृत 1097 14  
 पार तरित 1097.16  
**अवतुंग वेला**  
 भाटा 1040.27  
**अवत्वरक**  
 वेग रोधक 1043 9  
**अवत्वरण**  
 वेग रोधन 1043.8  
**अवत्वरित**  
 वेग रुद्ध 1043 19  
**अवबंश**  
 मद्य उपाहार 200.4  
**अयदाघ**  
 उष्णता 104 1  
 ग्रीष्म काल 53 8  
**अयदात**  
 उज्ज्वल 218.37  
 श्वेत 289.65  
**अयदान**  
 उत्तम कार्य 506 4  
 वीरता 396.1  
**अयदान्य**  
 कृपण 639.26  
 वीर 396.6  
**अयदान्यता**  
 कृपणता 639 9  
**अयवारण**  
 भंजन 539.1  
**अयदाह**  
 गौंडर घास मूल 112.15  
 ताप 103.1  
 दहन 108.1  
**अयदाह**  
 दूध 193.2  
**अयध**  
 अहत्या 250.3  
 दशरथः राज्य 770.37  
 रामः राज्य 770.9  
**अयध नरेश**  
 राम 770.1

## अवध बिहारी

### अवध बिहारी

राम 770.1

### अवधारण

आधारण 1019.5

### अवधः सार्यकाल

अवधः सार्यकाल 47.16 ⇨

### अवधान

ज्ञान ध्यान 755.1

ध्यान 331.1

ध्यानपूर्वक श्रवण 293.4

स्मृतिधरता 356.3

### अवधानी

ज्ञानी ध्यानी 755.8

ध्यानी 331.12

श्रोता 399.6

स्मृतिधर 356.22

### अवधार

इतनापन 946.2

सीमा 1001.1

### अवधारण

आधारण 1019.5

निर्धारण 328.6

सीमांकन 1001.13

### अवधारणा

धारणा 343.7

### अवधारणीय

विचारणीय 330.20

### अवधावन

प्रक्षालन 220.1

### अवधि

नियत काल 39.1

सीमांत 1001.19

सीमा 1001.1

### अवधि देना

अवधि निश्चित करना 39.8

### अवधि धरना

अवधि निश्चित करना 39.8

### अवधि निश्चित करना

अवधि निश्चित करना 39.8 ⇨

### अवधि बदना

अवधि निश्चित करना 39.8

### अवधि बाँधना

अवधि निश्चित करना 39.8

### अवधि में

अवधि में 39.11 ⇨

### अवधियुक्त

अवधियुक्त 39.9 ⇨

### अवधिहीन

अवधिहीन 39.10 ⇨

### अवधूत

अनासक्त 366.5

अवधूत 790.15 ⇨

संन्यासी 790.11

### अवधूतता

अनासक्ति 366.1

### अवधूत

आधारित 1019.17

### अवधेय

ज्ञान योग्य 305.42

### अवधेश

दशरथ 770.33

### अवध्य

अहंतय्य 250.19

### अवध्यंस

धूरा 938.17

### अवनत

अवनत 535.5 ⇨

नतमस्तक 733.21

यिनन्न 733.19

### अवनततः

यिनन्नतः 733.23

### अवनतता

अवनतता 1025.4

### अवनतन

अवनमन 1025.3

### अवनतभाल

नतमस्तक 733.21

### अवनत रेखा

अवनत रेखा 968.24 ⇨

### अवनत होना

अवनति होना 535.4

अवनमित होना 1025.6

### अवनति

अवनति 535.1 ⇨

अवनमन 1025.3

कोण 970.1

नतमस्तकता 733.10

निम्न बिंदु 983.4

पदावनति 653.13

### अवनति कर्ता

अवनतिकारी 535.7

### अवनतिकारी

अवनतिकारी 535.7 ⇨

### अवनति काल

अवनति काल 535.2 ⇨

पतझड़ काल 52.2

### अवनतिशील

अवनतिशील 535.6 ⇨

### अवनति होना

अवनति होना 535.4 ⇨

### अवनद्ध

मैका [मैकी] 592.19

### अवनद्ध बाघ

आनद्ध बाघ 461.16

### अवनमन

अवनमन 1025.3 ⇨

### अवनमित

अवनमित 1025.8 ⇨

### अवनमितता

अवनमितता 1025.4 ⇨

### अवनमित होना

अवनमित होना 1025.6 ⇨

### अवनमन

अधोवहन 1082.19

### अवनाह

यान जुलाई 1079.1

### अवनि

पृथ्वी 9.1

### अवनिजा

सीता 770.66

### अवनि तल

संपूर्ण धरातल 25.1

### अवनिरुह

वृक्ष 111.18

### अवनि चुत

मंगल ग्रह 7.7

### अवनि चुता

सीता 770.66

### अवनींद्र

राजा 882.6

### अवनींध्र

पर्वत 18.3

### अवनींश

राजा 882.6

### अवनेजन

हस्त प्रक्षालन 220.2

### अवन्य

सम्य 733.13

### अवपंक

कीचड़ 214.2

### अवपतन

अवपतन 1031.2 ⇨

### अवपतित

पतित 1031.24

### अवपतित होना

पतन होना 1031.15

### अवपरमाणु कण

अवपरमाणु कण 78.11 ⇨

### अवपाक

कुपरिपथित 195.68

### अवपात

आकस्मिक पात 1031.4

झपट्टा 914.10

### अवपातन

अवपातन 1031.3 ⇨

### अवपातन (वे.)

अधोक्षेपण 1052.12

### अवपातयिता

पतन कर्ता 1031.28

### अवपाव

अवपतन 1031.2

### अवप्रवाह

अधी प्रवाह 21.18

### अवबुद्ध

ज्ञान 305.29

ज्ञानी 305.30

विवक्षित 428.32

### अवबोध

अर्थ ग्रहण 427.2

बोध प्राप्ति 301.11

### अवबोधक

बंदीजन 841.15

बोध प्रदाता 301.30

### अवबोधन

बोध प्रदान 301.10

### अवबोध

ज्ञेय 305.38

### अवबोध्यता

ज्ञेयता 305.20

### अवन

अंतिम 995.11

अधम 840.4

पापी 812.12

### अवमज्ज

सुबकी 1031.10

### अवमज्जन

सुबकी कर्म 1031.11

### अवमज्जित

सूबा [सुबी] 1031.31

### अवमान

अपमान 855.1

### अवमानक

अवमानक 957.9 ⇨

### अवमानन

अपमानन 855.2

### अवमानना

मानहानि 855.3

### अवमाननापूर्ण

मानहानिपूर्ण 855.14

### अवमाननायुक्त

मानहानिपूर्ण 855.14

### अवमानित

अपमानित 855.11

### अवमाननी

अपमान कर्ता 855.13

### अवमान्य

अपमान्य 855.12

### अवयव

अंग 139.8

उपकरण 558.7

खंड 938.1

यंत्रः अवयव 558.18

### अवयवता

वैयक्तिकता 889.2

### अवयव संधि

अवयव संधि 139.10 ⇨

### अवयवी

अंगीय 139.15

शरीरी 139.13

### अवयस्क

अवयस्क 229.22 ⇨

### अवर

अधीनस्थ 852.40

कनिष्ठ 229.28

नितांत अंतिम 995.15

निम्न 983.5

पश्चिमी 29.33

समयोपरांत 82.18

### अवर कालीन

समयोपरांत 82.18

**अवरज**

छोटा भाई 723.12  
**अवरत**  
 निवृत्त 503.9  
 विरामयुक्त 1048.5  
**अवरति**  
 निवृत्ति 503.1  
 निश्चलता 1038.2  
**अवर स्वगूतक**  
 त्वचा स्तर सूची 134.7  
**अवर स्वधा**  
 त्वचा स्तर सूची 134.7  
**अवर वर्णज**  
 शूद्र 731.28  
**अवरार्थ**  
 उत्तरार्थ 447.12  
**अवरावली**  
 त्वचा स्तर सूची 134.7  
**अवरुद्ध**  
 अवरुद्ध 1047.27 ⇨  
 घेराबंद 914.23  
 रुद्ध 272.10  
 याथारुद्ध 429.27  
**अवरुद्ध (जल)**  
 अप्रवाहित (जल) 21.40  
**अवरुद्धकंठ**  
 रुद्धकंठ 429.28  
**अवरुद्ध करना**  
 अवरुद्ध करना 1047.19 ⇨  
**अवरुद्ध कामना**  
 दमित आकांक्षा 352.11  
**अवरुद्धता**  
 गति रुद्धता 1047.3  
 रुद्धता 272.3  
**अवरुद्ध होना**  
 अवरुद्ध होना 1047.18 ⇨  
**अवरुद्ध**  
 अवरुद्धित 1081.53  
**अवरुद्धा**  
 रघोली 806.7  
**अवरुद्ध**  
 विकर्णता 1028.5  
**अवरुद्ध काट**  
 आदी काट 543.3  
**अवरुद्धवार**  
 विकर्णयुक्त 1028.11  
**अवरुद्ध**  
 अधोलिखित 430.22  
**अवरुद्ध**  
 अवरुद्ध 1047.8 ⇨  
 डक्कन 875.6  
 परकोटा 804.11  
**अवरुद्धक**  
 अवरुद्धक 1047.28 ⇨  
 घेरा कालने वाला 914.24  
 रोधक 272.11  
**अवरुद्धकता**  
 अवरुद्धकता 1047.10 ⇨

**अवरुद्ध करना**

अवरुद्ध करना 1047.19  
**अवरुद्धक लगाना**  
 अवरुद्ध करना 1047.19  
**अवरुद्धन**  
 अवरुद्धन 1047.9 ⇨  
 रोधन 272.4  
 वेग अवरुद्धन 1043.3  
**अवरुद्धन करना**  
 अवरुद्ध करना 1047.19  
**अवरुद्ध न करना**  
 अवरुद्ध न करना 1049.8 ⇨  
**अवरुद्धना (प्र)**  
 दमित आकांक्षा 352.11  
**अवरुद्धपूर्ण**  
 अवरुद्धात्मक 1047.26  
**अवरुद्धहीन**  
 अवरुद्धहीन 1049.13 ⇨  
**अवरुद्धहीनता:**  
 अवरुद्धहीनता: 1049.23 ⇨  
**अवरुद्धहीनता**  
 अवरुद्धहीनता 1049.4 ⇨  
**अवरुद्धात्मक**  
 अवरुद्धात्मक 1047.26 ⇨  
**अवरुद्धिन्न**  
 अवरुद्धक 1047.28  
**अवरुद्धी**  
 अवरुद्धक 1047.28  
**अवरुद्धपक**  
 उन्मूलन कर्ता 548.58  
**अवरुद्ध**  
 अंकुरण 117.1  
 अवरुद्ध 458.4 ⇨  
 डलान 989.2  
 वटवृक्ष जटा 112.18  
**अवरुद्ध (संगीत)**  
 अवरुद्धण 1031.6  
**अवरुद्ध क्रम**  
 अवरुद्ध क्रम 991.4 ⇨  
**अवरुद्ध क्रम से**  
 अवरुद्धत: 991.30  
**अवरुद्ध क्रमिक**  
 अवरुद्ध क्रमिक 991.23 ⇨  
**अवरुद्धण**  
 अवरुद्धण 1031.6 ⇨  
 विमान अवरुद्धण 1081.25  
**अवरुद्धण करना**  
 अवरुद्धण करना 1081.47 ⇨  
**अवरुद्धत:**  
 अवरुद्धत: 991.30 ⇨  
**अवरुद्धराष्ट्रीय**  
 बरगद 13.18  
**अवरुद्धशील**  
 अवरुद्धी 458.58  
**अवरुद्धित**  
 अवरुद्धित 1081.53 ⇨  
 पतित 1031.24

**अवरुद्धी**

अधोगामी 1031.28  
 अवरुद्धी 458.58 ⇨  
 पतनशील 1031.25  
 बरगद 13.16  
 संगीत वर्ण सूची 459.24  
**अवर्ण**  
 जातिहीन 730.18  
**अवर्णना**  
 अनिवेध 880.2  
**अवर्णित**  
 अनिवेध 880.13  
**अवर्ण**  
 अरजित 291.15  
**अवर्णनीय**  
 अवर्णनीय 449.26 ⇨  
**अवर्णनीयता**  
 अपरिभाष्यता 317.4  
 अवर्णनीयता 449.2 ⇨  
**अवर्ण संकर**  
 शुद्ध वर्णीय 731.39  
**अवर्णाली रंग**  
 अवर्णाली रंग 289.10 ⇨  
**अवर्णित**  
 अनमिष्यक्त 429.19  
**अवर्ण्यता**  
 अवर्णनीयता 449.2  
**अवर्णमान**  
 अर्जित 247.8  
 अनुपस्थित 1022.7  
 अवर्णमान 66.7 ⇨  
**अवर्णमानता**  
 अनुपस्थिति 1022.2  
**अवर्णी**  
 अवर्णमान 66.7  
**अवर्णन**  
 अविकास 533.4  
**अवर्णित**  
 अविकसित 533.11  
**अवर्णा**  
 वर्षाहीनता 54.2  
**अवर्णा अतिवर्णा आदि**  
 भौतिक संकट 909.3  
**अवर्णित**  
 वर्षाहीन 54.20  
**अवर्णब**  
 आधार 596.1  
 परिशिष्ट 447.10  
 लाठी 923.9  
 शरण 910.4  
**अवर्णबला**  
 आधारितता 1019.1  
**अवर्णबन**  
 अनुगमन 345.2  
 आधार ग्रहण 1019.6  
 प्रलंबन 1024.1  
**अवर्णबनहीन**  
 अवर्णबनहीन 649.10 ⇨

**अवर्णबनहीनता**

अवर्णबनहीनता 649.2 ⇨  
**अवर्णबनीय**  
 विश्वसनीय 340.13  
**अवर्णबनीयता**  
 विश्वसनीयता 340.2  
**अवर्णब रेखा**  
 लंब रेखा 968.34  
**अवर्णबहीन**  
 अवर्णबनहीन 649.10  
**अवर्णबहीनता**  
 अवर्णबनहीनता 649.2  
**अवर्णबित**  
 आधारित 1019.17  
 शरणागत 910.12  
**अवर्णबितता**  
 आधारितता 1019.1  
 परावर्णबितता 648.3  
**अवर्णबी**  
 परावर्णबी 648.12  
**अवर्ण**  
 पक्ति 691.4  
 पर्वत. श्रेणी 16.9  
**अवर्णली**  
 पक्ति 691.4  
 पर्वत श्रेणी 16.9  
 यातायात लेन 1067.3  
 समूह 690.1  
 सूची 993.1  
**अवर्णली (जैसे: भजनावली)**  
 संकलन पुस्तक 446.23  
**अवर्णलीड**  
 घाटा [घाटी] 181.67  
**अवर्णलुचन**  
 लुचकन 1031.7  
 लूट 864.21  
**अवर्णलुठित**  
 लुटा [लुटी] 864.52  
 लुचका [लुचकी] 1031.29  
**अवर्णलेखनी**  
 तुलिका 404.33  
**अवर्णलेप**  
 आलेप 292.1  
 लेप 176.24  
**अवर्णलेह**  
 अवर्णलेह 176.12 ⇨  
 घटनी 201.2  
 लेह्यम 186.7  
**अवर्णलेहक**  
 घाटने वाला 181.57  
**अवर्णलेहन**  
 लेहन 181.8  
**अवर्णलोकक**  
 अवर्णलोकक 284.48 ⇨  
**अवर्णलोकन**  
 अवर्णलोकन 284.1 ⇨  
 कला सनीक्षा 398.3  
 दृष्टिपात 284.15

## अवलोकन करना

**अवलोकन करना**  
देखना 284.30  
**अवलोकन शैली**  
अवलोकन शैली 284.4 ⇨  
**अवलोकना**  
देखना 284.30  
**अवलोकनि**  
अवलोकन शैली 284.4  
**अवलोकनीय**  
दर्शनीय 400.13  
**अवलोकित**  
अवलोकित 284.47 ⇨  
निरीक्षित 284.54  
**अवलोकितेश्वर**  
बोधिसत्त्व सूची 793.16  
**अवश**  
विषय 901.11  
**अवशता**  
विषयता 901 3  
**अवशप्त**  
शापित 713 8  
**अवशवर्ती**  
घरोतर 900 9  
**अवशाधीन**  
घरोतर 900.9  
**अवशाधीनता**  
घरोतरता 900.3  
**अवशिष्ट**  
अवशिष्ट 954.17 ⇨  
अवशिष्टांश 939.17  
असमाप्त 943 11  
घटान फल 954.9  
पुरा अवशेष 77.2  
भुगतान अकृत 839.17  
रही 526.13  
**अवशिष्ट अंश**  
अवशिष्ट अंश 939.7 ⇨  
असमाप्त अंश 523.3  
शेषांश 954.10  
**अवशिष्ट देय**  
भुगतान शेष 639.2  
**अवशिष्ट फाग**  
फोक 526.2  
**अवशिष्ट होना**  
अवशिष्ट होना 939.10 ⇨  
**अवशिष्टांश**  
उच्छिष्ट आहार 198.3  
**अवशिष्टांश**  
अवशिष्टांश 939.17 ⇨  
**अवशीभूत**  
अप्रभावित 511.14  
घरोतर 900.9  
**अवशेष**  
अवशिष्ट अंश 939.7  
घटान फल 954.9  
पुरा अवशेष 77.2  
**अवशेषन**  
घटान कर्म 954.6

**अवशेषयुक्त**  
अवशेषयुक्त 939.18 ⇨  
**अवशेष स्तूप**  
स्तूप 255 10  
**अवशेषहीन**  
अवशेषहीन 939.19 ⇨  
**अवशेषहीनता**  
अवशेषहीनता 939.9 ⇨  
**अवशेषित**  
अवशिष्टांश 939.17  
घटाया [घटाई] 954 14  
**अवशेषक**  
अवशेषक 1002.30 ⇨  
**अवशेषण**  
अवशेषण 1002 10 ⇨  
**अवशेष पत्र**  
क्लीटिंग पेपर 416.31  
**अवशेषित**  
अवशेषित 1002.29 ⇨  
**अवशेषित करना**  
अवशेषित करना 1002.20 ⇨  
**अवशेषित्र**  
स्याही सोखता 416.30  
**अवश्यभावना**  
अवश्यभावना 68.7 ⇨  
**अवश्यभायी**  
अवश्यभायी 68.15 ⇨  
**अवश्य**  
अपरंतुकतः 339.51  
अवश्यभायी 68.15  
अवश्यमेव 68.21  
अवश्यमेवः उक्ति सूची 68 23  
सत्तिरयय हौं 337 30  
**अवश्यतः**  
अवश्यमेव 68.21  
**अवश्यमेव**  
अवश्यमेव 68.21 ⇨  
अवश्यमेव. उक्ति सूची 68.23  
**अवश्यमेवः उक्ति सूची**  
अवश्यमेवः उक्ति सूची 68.23 ⇨  
**अवश्य होना**  
अवश्य होना 68.11 ⇨  
**अवश्याय**  
ओस 90.11  
कोहरा 90.10  
तुषार पात 90.9  
**अवष्टंभ**  
मनोबल 394.4  
**अवसन्न**  
अवसन्न 264.22 ⇨  
स्तंभन कृत 758.42  
**अवसन्न करना**  
अवसन्न करना 264.18 ⇨  
**अवसन्नता**  
अवसन्नता 264.4 ⇨  
चेतनाहीनता 264.2  
**अवसन्नन (धै.)**  
निस्संजीकरण 174.7

**अवसन्नभाग्य**  
दुर्भाग्यशाली 260.34  
**अवसन्निकरण (धै.)**  
पीड़ा हरण 392 15  
**अवसर**  
अवसर 70.1 ⇨  
उपयुक्त अवसर 70.3  
प्रसंग अवसर 437.2  
संभावना लक्षण 68.3  
संयोग 69.1  
**अवसर उपभोग करना**  
अवसर उपभोग करना 70 11 ⇨  
**अवसर उपभोग न करना**  
अवसर उपभोग न करना 70 12 ⇨  
**अवसर का लाभ उठाना**  
अवसर उपभोग करना 70.11  
**अवसरकारी**  
अवसरवादी 827.18  
**अवसर चूकना**  
अवसर उपभोग न करना 70.12  
**अवसर छोड़ना**  
अवसर उपभोग न करना 70.12  
**अवसर न छोड़ना**  
अवसर उपभोग करना 70.11  
**अवसर पकड़ना**  
अवसर उपभोग करना 70 11  
**अवसर प्रतिकूल**  
अवसर प्रतिकूल 70.15 ⇨  
**अवसर प्रतीक्षा**  
घात प्रतीक्षा 914.1  
**अवसर मिलने पर**  
संदर्भवश 437.17  
**अवसरवाद**  
अवसरवादिता 827.3  
**अवसरवादिता**  
अवसरवादिता 827.3 ⇨  
दल बदलूपन 885.19  
**अवसरवादी**  
अवसरवादी 827.18 ⇨  
विचलनशील 501.12  
**अवसरवादी होना**  
अवसरवादी होना 827.12 ⇨  
**अवसर साधक**  
अवसरवादी 827.18  
**अवसरानुकूल**  
अवसरानुकूल 70.14 ⇨  
संगत 438.6  
**अवसरानुकूलता**  
अवसरानुकूलता 70.2 ⇨  
संगतता 438.1  
**अवसरीय**  
अवसरीय 70.13 ⇨  
**अवसरोचित**  
अवसरानुकूल 70.14  
**अवसरोचितता**  
अवसरानुकूलता 70.2  
**अवसर्पण**  
फिसलन 1084.15

**अवसर्पिणी**  
अवसर्पिणी 40.5 ⇨  
युग 40.1  
**अवसाद**  
अवसादानुभूति 353 5  
उत्साहहीनता 492.1  
उदासी 380.5  
खिन्नता 380 2  
मनोव्यथा 391 7  
शोक 383.1  
**अवसादन**  
आघारण 1019.5  
निधरन 1031.14  
म्लानन 120 3  
**अवसादहीन**  
शोकहीन 382.24  
**अवसादहीनता**  
शोकहीनता 382.9  
**अवसादानुभूति**  
अवसादानुभूति 353.5 ⇨  
**अवसाधित**  
दुःखी 391 24  
निधरा [निधरी] 1031.33  
शोकग्रस्त 383 8  
समाप्त 942.20  
**अवसादी**  
खिन्न 380.10  
दुःखी 391 24  
शोकग्रस्त 383 8  
**अवसान**  
कार्य दिवसांत 494.3  
कार्य समाप्ति 522.1  
मृत्यु 249.1  
**अवसेचन**  
छिड़काव 668.7  
**अवस्कंद**  
सेना छावनी 933.7  
**अवस्कर**  
कूड़ा 214 3  
प्रनाइट 99 3  
धूरा 218.19  
विष्टा 216.2  
**अवस्कर मंदिर**  
शीघ्रालय 216.18  
**अवस्तार**  
स्ट्रैचर 1071.25  
**अवस्तु**  
नगण्य 853.10  
दुःख अवस्था 79.2  
**अवस्तु दर्शन**  
मिथ्या दर्शन 342.5  
**अवस्त्र**  
नग्न 590.16  
**अवस्थ**  
पुरुष जननेंद्रिय 152.10  
**अवस्था**  
जीवनः अवस्था 229.15  
पदार्थ अवस्था 79.1



परिस्थिति 69.5  
 वय 229.11  
 विकास स्थिति 534.5  
 स्वास्थ्य दशा 161.2  
**अवस्था क्रम**  
 विकास क्रम 991.12  
**अवस्थापक**  
 स्थित कर्ता 1020.9  
**अवस्थापन**  
 स्थितन 1020.3  
**अवस्थित**  
 आसीन 1028.10  
 स्थित 1020.8  
**अवस्थितता**  
 स्थितता 1020.2  
**अवस्थिति**  
 स्थावरता 1038.1  
 स्थिति 1020.1  
**अवह**  
 प्रवाहहीन 1041.9  
**अवहनन**  
 फटकाई 1009.12  
 बायीं फुफ्फुस 146.4  
**अवहनीय**  
 स्थावर 1038.7  
**अवहनीय होना**  
 स्थावर होना 1038.4  
**अवहरण**  
 अपनयन 1053.3  
 अपहरण 862.1  
**अवहस्त**  
 पाणि पृष्ठ 150.6  
**अवहार**  
 धर्म त्याग 742.13  
 युद्ध विराम 906.4  
**अवहित**  
 ध्यानमग्न 331.11  
**अवहित्थ**  
 लज्जा गोपन 845.3  
**अवहित्था**  
 लज्जा गोपन 845.3  
**अवहेलन**  
 अपमानन 855.2  
**अवहेलना**  
 अपमान 855.1  
 अवज्ञा 348.1  
 असत्कार 185.1  
 उपेक्षा 185.2  
**अवहेलनीय**  
 अपमान्य 855.12  
**अवहेलित**  
 अपमानित 855.11  
 अवज्ञाकृत 348.6  
 उपेक्षित 185.7  
**अवहेल्य**  
 अपमान्य 855.12  
**अवाञ्छनीय**  
 अनावश्यक 525.9

अनिच्छनीय 360.11  
 अप्रिय 370.5  
 अरोचक 401.10  
 नापसंद 401.9  
**अवाञ्छनीयता**  
 अनावश्यकता 525.3  
**अवाञ्छा**  
 अप्रत्याशा 376.3  
 इच्छाहीनता 360.1  
**अवाञ्छित**  
 अनावश्यक 525.9  
 अनिच्छित 360.10  
**अवाञ्छितता**  
 अनावश्यकता 525.3  
**अवांतर**  
 अप्रधान 853.9  
**अवांतर दिशा**  
 उपदिशा 29.13  
**अवांतर देश**  
 मध्यवर्ती राज्य 881.7  
**अवांतर भेद**  
 गौण कोटि 936.3  
**अवासी**  
 नवान्न फसल 547.2  
**अवाक**  
 अनुघटी 1033.21  
 निरुत्तर 335.10  
 ब्रह्म 764.24  
 मौन 429.22  
**अवाकला**  
 निरुत्तरता 335.2  
**अवाक क्लिप्त**  
 अवाक क्लिप्त 472.2  
**अवाक्ता**  
 निरुत्तरता 335.2  
**अवाग्दत्त [अवाग्दत्ता]**  
 वचन अदत्त 338.47  
**अवाग्दान**  
 वचन अदान 338.15  
**अवाधा ध्वनि**  
 वादेतर ध्वनि 296.1  
**अवाधाल**  
 अंतराभिमुखी 838.14  
 अवाधाल 429.26  
**अवाधालता**  
 अंतराभिमुखता 838.6  
 अवाधालता 429.6  
**अवाधित**  
 अकथित 429.20  
**अवाधी**  
 दक्षिण 29.10  
**अवाधीन**  
 अधोमुख 1023.14  
 दक्षिणी 29.31  
**अवाध्य**  
 अकथनीय 429.21  
 दक्षिणी 29.31

**अवाप्त**  
 परिणामतः प्राप्त 510.11  
**अवार**  
 निकटस्थ तट 25.15  
**अवारजा**  
 जमाखर्च बही 632.15  
 रोज़नामचा 632.20  
**अवारण**  
 अनिवारण 919.3  
**अवारणीय**  
 अनिवार्य 919.9  
**अवारणीयता**  
 अनिवार्यता 919.4  
**अवारिजा**  
 जमाखर्च बही 632.15  
**अवारित**  
 अनिवारित 919.8  
**अवाढ (अँ)**  
 अधिनिर्णय 877.15  
 विवाधन पंचाट 877.8  
**अवार्य**  
 अनिवार्य 919.9  
**अवालाच (अँ)**  
 हिम स्थलन 90.4  
**अवासा**  
 दिग्बर देश 589.8  
 नग्न 590.16  
**अवासिता**  
 अनिवासिता 617.2  
**अवासी**  
 अनियासी 617.12  
**अवास्तयता**  
 अवास्तयिकता 821.9  
**अवास्तयिक**  
 अवास्तयिक 821.20  
 तध्यहीन 821.22  
**अवास्तयिकता**  
 अवास्तयिकता 821.9  
**अवाहन**  
 यानहीन 1082.33  
**अवाह्यता**  
 स्थावरता 1038.1  
**अवि**  
 नर बकरी 127.23  
 नर भेड़ 127.25  
 रजस्वला 130.13  
**अविक**  
 नर भेड़ 127.25  
 हीरा 96.28  
**अविकट**  
 सहज 518.14  
**अविकटता**  
 सहजता 518.1  
**अविकल**  
 अमंजित 539.13  
 असंक्षिप्त 978.7  
 आद्योपांत 940.14  
 निरुद्दिग्म 378.9

सर्वांग 153.14  
**अविकलता**  
 असंक्षिप्तता 978.3  
 आद्योपांतता 940.7  
 निरुद्दिग्मता 378.3  
 पूर्णांशता 940.5  
 सर्वांगता 153.1  
**अविकलांग**  
 सर्वांग 153.14  
**अविकलांगता**  
 सर्वांगता 153.1  
**अविकल्प**  
 विकल्पहीनता 516.3  
**अविकल्पित**  
 अपोषण प्रस्त 179.23  
 अप्रस्कृष्टित 120.12  
 अविकल्पित 533.11  
**अविका**  
 भेड़ 127.24  
**अविकार**  
 अपरिवर्तन 533.1  
 अपरिवर्तनशील 533.10  
 अविकार 533.6  
 अविकृत 533.14  
 निर्गुण ईश्वर 764.9  
 विशुद्धता 219.2  
**अविकारशील**  
 अपरिवर्तनशील 533.10  
**अविकारी**  
 अनश्वर 37.9  
 अपरिवर्तनशील 533.10  
 निराकार ईश्वर 764.8  
**अविकारी शब्द**  
 अव्यय 425.3  
**अविकास**  
 अपोषण 179.3  
 अविकास 533.4  
**अविकृत**  
 अविकृत 533.14  
 विशुद्ध 219.7  
**अविकृति**  
 अविकार 533.6  
**अविकृत**  
 अनाहत 168.8  
 अमंजित 539.13  
**अविकृतित**  
 पूर्णांशिक 940.13  
**अविकृतितता**  
 पूर्णांशता 940.5  
**अविक्रयता**  
 अख्यात 848.5  
**अविगत**  
 अव्यतीत 74.4  
**अविगततांग**  
 अविरक्त 365.7  
**अविगतस्पृह**  
 अविरक्त 365.7

## अविद्यल

**अविचल**  
अविचल 500.15 ⇨  
स्थावर 1038.7

**अविचलता**  
अविचलता 500.5 ⇨  
गति रुद्धता 1047.3

**अविचलन**  
दृढमतता 343.2  
धैर्य 394.6  
प्रतिरोध 915.1

**अविचलित**  
अविचल 500 15  
ध्यानमग्न 331 11

**अविचलितता**  
अविचलता 500.5

**अविचलित रहना**  
विचलित न होना 500 8

**अविचार**  
जल्दबाजी 498.4

**अविचारक**  
अविचारक 330.23 ⇨

**अविचारण**  
अविचारण 330.8 ⇨

**अविचारणीय**  
अविचारणीय 330.25 ⇨

**अविचारतः**  
विचारहीनतः 330.30

**अविचारशील**  
अविचारक 330 23

**अविचारित**  
अप्रत्याशित 376.7  
अविचारित 330.24 ⇨

**अविचारी**  
अविचारक 330.23  
जल्दबाज 498.12

**अविचार्य**  
अविचारणीय 330 25

**अविच्छिन्न**  
अविभक्त 698 11  
अदिराम 1049 10  
सटा [सटी] 31 8

**अविच्छिन्नतः**  
अदिरामतः 1049 16

**अविच्छिन्नता**  
तारतम्य 1049.3

**अविच्छ्रुत**  
अनश्वर 37 9  
अविचल 500 15

**अविजडित**  
जंगम 1037 18

**अविजडितता**  
जंगमता 1037 2

**अविजित**  
अपराजित 913 6

**अविजितता**  
अपराजितता 913.2

**अविजेयता**  
अजेयता 519.11

**अविज्ञ**  
अज्ञ 306.16

**अविज्ञता**  
अनभिज्ञता 306.8

**अविज्ञात**  
अस्पष्ट 823.11

**अविज्ञानीय**  
विज्ञान विरुद्ध 307.14

**अविज्ञेय**  
अज्ञेय 306 13

**अविज्ञीन**  
ग्लाइडिंग 1081.21

**अवितर्कित**  
अप्रत्याशित 376 7  
अविचारित 330.24

**अवित**  
निर्घन 627.20

**अविदित**  
अख्यात 848.5  
अज्ञात 308.12  
गुप्त 824.20  
रक्षित (रहस्य) 823.14

**अविद्व**  
अविद्व 272.8 ⇨

**अविद्वता**  
अविद्वता 272.1 ⇨

**अविद्य**  
अज्ञ 308.16  
अशिक्षित 321.42

**अविद्यमान**  
अजीवित 247.8  
अनुपस्थित 1022.7  
अवर्तमान 66.7  
अस्तित्वहीन 247.6

**अविद्यमानता**  
अनस्तित्व 247.1  
अनुपस्थिति 1022.2  
रहितता 1007.1

**अविद्या**  
अज्ञान 306.1  
माया 762.9  
विपरीत ज्ञान 306.4  
विषय वासना रूपी अज्ञान 761.2

**अविद्या क्लेश**  
पंच क्लेश सूची 761.17

**अविद्रोही**  
अत्याचार सहन कर्ता 835.14

**अविद्वत्ता**  
अविद्वत्ता 320.1 ⇨

**अविद्वान**  
अविद्वान 320.4 ⇨

**अविद्याता**  
अरथता 528 7

**अविधान**  
विधिहीनता 515.1

**अविधि**  
विधिहीनता 515 1

**अविधिमान्य**  
अवैध 878.27

**अविधिमान्यता**  
अवैधता 878.15

**अविधेय**  
अकरणीय 505.19  
असाध्य 519.22

**अविध्वस्त**  
अनष्ट 533.16

**अविनम्र**  
धृष्ट 734.20

**अविनय**  
अयज्ञा 348.1  
दर्प 858.5

**अविनश्वर**  
अनश्वर 37.9

**अविनाशी**  
अनश्वर 37.9  
ईश्वर 764.1

**अविनीत**  
दर्पी 858.13  
धृष्ट 734.20

**अविनीतता**  
धृष्टता 734.8

**अविनीता**  
व्यभिचारिणी 806.11

**अविपट /**  
ऊनी वस्त्र 579.9

**अविपाल**  
भेड़ बकरी पालक 555.2

**अविभक्त**  
अद्वैत ईश्वर 764 6  
अविभक्त 698.11 ⇨  
युतिहीन 1010.25

**अविभक्तता**  
अविभक्तता 698.6 ⇨

**अविभाजन**  
अविभाजन 698.5 ⇨  
ईश्वरः अद्वैतता 764.5

**अविभाजित**  
अविभक्त 698.11  
एकतापूर्ण 698.9

**अविभाजित अंश**  
पूर्ण अंश 940.6  
भाग शेषांश 955.19

**अविभाजितता**  
पूर्णाशता 940.5

**अविभाज्य**  
परमाणु 78.10

**अविभाज्य संख्या**  
अभाज्य संख्या 949.13

**अविभूषित**  
अनलंकृत 227.5

**अविभेद्यता**  
सामान्यता 311.1

**अविचरित**  
अविचारित 330.24

**अविद्युक्त**  
संयोगी 389.10  
सहित 1006.2

**अविद्योगिनी**  
संयोगिनी 389.11

**अविद्योगी**  
संयोगी 389.10

**अविरक्त**  
अविरक्त 365.7 ⇨

**अविरक्ति**  
अविरक्ति 365.2 ⇨

**अविरत**  
अविरक्त 365.7  
शाश्वत 37.7

**अविरतता**  
शाश्वतता 37.1

**अविरति**  
अविरक्ति 365.2

**अविरल**  
अविराम 1049.10  
अविरामतः 1049.18  
शाश्वत 37.7  
सघन 81.15  
सघन 1004.15  
सटा [सटी] 31.8

**अविरलता**  
सघनता 1004.5

**अविरक्षित**  
मिला [मिली] 389.8  
संयोगी 389.10  
सहित 1008.2

**अविरही**  
संयोगी 389.10

**अविराम**  
अविराम 1049.10 ⇨  
बिना धके 493.17  
शाश्वत 37.7

**अविराम गति**  
अविराम गति 1049.2 ⇨

**अविराम गतिशील**  
अविराम गतिशील 1049.11 ⇨

**अविरामता**  
अविरामतः 1049.16 ⇨

**अविरामता**  
अविरामता 1049.1 ⇨  
शाश्वतता 37.1

**अविराम होना**  
विराम न होना 1049.6

**अविच्छ**  
अनुकूल 885.37

**अविरोध**  
अविरोधित 887 12  
एकता 698.1  
विरोधहीनता 887.4  
सामंजस्य 702.1

**अविरोधित**  
अविरोधित 887.12 ⇨

**अविलंब**  
शीघ्रतः 496.13  
**अविलंबता**  
शीघ्रता 496 1  
**अविलग्नता**  
संलग्नता 1010.2  
**अविषका**  
अनपेक्षा 360.2  
**अविषकित**  
अनपेक्षित 360.13  
**अविवाद**  
निर्विवादता 324.2  
सर्व सहमति 337.4  
**अविवादता**  
निर्विवादता 324.2  
**अविवाहित**  
निर्विवाद 324.24  
**अविवाह**  
अविवाहितता 234.9  
**अविवाहित**  
अविवाहित 234.13 ⇨  
कौमार्ययुक्त 234.15  
**अविवाहित जीवन**  
ब्रह्मचर्य आश्रम 234.1  
**अविवाहितता**  
अविवाहितता 234.9 ⇨  
**अविवाहित परकीया नायिका**  
अनुका नायिका 456.14  
**अविवाहित पुत्री**  
अविवाहित पुत्री 234.10 ⇨  
**अविवाहित पुरुष**  
अविवाहित पुरुष 236.17 ⇨  
**अविवाहित पुरुष उपाधि सूची**  
अविवाहित पुरुष उपाधि सूची 856.3 ⇨  
**अविवाहित प्रेमिका**  
अनुका नायिका 456.14  
परकीया नायिका 456.12  
**अविवाहित स्त्री**  
कुमारी 234.17  
**अविवाहित स्त्री उपाधि सूची**  
अविवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.5 ⇨  
**अविवाहिता**  
अविवाहिता 234.14 ⇨  
**अविधि**  
एकविध 310.9  
**अविधिबन्तः**  
अविधियतः 310.12 ⇨  
**अविधिधता**  
एकपार्श्वीयता 997.3  
**अविधेक**  
अगुणज्ञता 306.9  
अविधेक 302.4 ⇨  
जल्दबाजी 498.4  
**अविधेकपूर्णता**  
तर्कहीनता 325.8  
**अविधेकी**  
अगुणज्ञ 306.18  
अविधेकी 302.11 ⇨

जल्दबाज़ 498.12  
**अविशक**  
आपत्तिहीन 326.21  
**अविशब्द**  
अस्पष्ट 823.11  
**अविश्रावता**  
अस्पष्टता 823.1  
**अविश्राव रंग**  
अप्रस्पृष्टित रंग 289.28  
**अविश्राव**  
लघुकाय 154.28  
**अविशिष्ट**  
सामान्य 311.3  
**अविशुद्ध**  
अविशुद्ध 219.8 ⇨  
**अविशुद्धता**  
अविशुद्धता 219.3 ⇨  
**अविशेष**  
सामान्य 311.3  
**अविशेषता**  
सामान्यता 311.1  
**अविशोषित**  
अविशुद्ध 219.8  
**अविश्राम**  
अथकान 493.5  
**अविश्रामतः**  
बिना थके 493.17  
**अविश्वसनीय**  
अविश्वसनीय 341.6 ⇨  
तथ्यहीन 821.22  
**अविश्वसनीयता**  
तथ्यहीनता 821.11  
निष्ठाहीनता 827.1  
**अविश्वस्त**  
अविश्वसनीय 341.6  
संदिग्ध 341.9  
**अविश्वास**  
अविश्वास 341.1 ⇨  
श्रद्धाहीनता 341.2  
संदेह 341.3  
**अविश्वासी**  
अविश्वासी 341.7 ⇨  
संदेहशील 341.10  
**अविषय**  
समसंख्यक 949.29  
**अविषयसक्त**  
अनासक्त 366.5  
**अविषयसक्तता**  
अनासक्ति 366.1  
**अविस्तीर्ण**  
संकीर्ण 980.29  
**अविस्तीर्णता**  
संकीर्णता 980.11  
**अविस्तृत**  
संकीर्ण 980.29  
**अविस्तृतता**  
संकीर्णता 980.11

**अविस्मरण**  
अविस्मरण 356.6 ⇨  
**अविस्मरणशील**  
अविस्मरणशील 356.21 ⇨  
**अविस्मरणीय**  
अविस्मरणीय 356.20 ⇨  
**अविस्मृत**  
अविस्मृत 356.19 ⇨  
**अविहित**  
अकृत 505.21  
अनियत 68.18  
अनैतिक 816.4  
अवैध 878.27  
असंगत 439.5  
नियम प्रतिकूल 879.19  
निषिद्ध 880.12  
विधि विरुद्ध 515.8  
विधिहीन 515.7  
**अविहितता**  
अवैधता 878.15  
नियम प्रतिकूलता 879.10  
**अविहीन**  
सहित 1006.2  
**अवीत**  
अव्यतीत 74.4  
**अवीतरागी**  
अविरक्त 365.7  
**अवीरा**  
पुत्रहीन विधवा 804.17  
**अवृत्ति**  
अप्रवृत्ति 503.2  
**अवृथा**  
सफलतापूर्वक 512.8  
**अवृत्त**  
वर्षाहीन 54.20  
**अवृष्टि**  
वर्षाहीनता 54.2  
**अवैक्षक**  
अनुपेक्षक 184.9  
**अवैक्षण**  
अवलोकन 284.1  
निरीक्षण 284.16  
**अवैक्षा**  
अनुपेक्षा 184.2  
सत्कार 184.1  
**अवैक्षा करना**  
उपेक्षा न करना 184.5  
**अवैक्षा कर्ता**  
अनुपेक्षक 184.9  
**अवैक्षाहीन**  
उपेक्षक 185.8  
**अवैक्षित**  
अनुपेक्षित 184.8  
सत्कृत 184.6  
**अवैधीय**  
अवैधीय 740.63 ⇨  
**अवैध**  
अज्ञेय 306.13

**अवैधित**  
अविद्ध 272.8  
**अवैध्य**  
अवैध्य 519.26 ⇨  
**अवैध्यता**  
अवैध्यता 519.10 ⇨  
**अवैस्ता**  
प्रेम अवैस्ता 739.18  
**अवैज्ञानिक**  
विज्ञान विरुद्ध 307.14  
**अवैज्ञानिकता**  
अवैज्ञानिकता 307.3 ⇨  
भ्रम विश्वास 340.3  
**अवैदिक**  
अवैदीय 740.63  
**अवैदिक धार्मिक छंद**  
अवैदिक धार्मिक छंद 452.7 ⇨  
**अवैध**  
अधिकारहीन 898.3  
अवैध 878.27 ⇨  
छोटा [छोटी] 98.13  
जारज 716.18  
निषिद्ध 880.12  
अवैध घोषित करना  
विनिषिद्ध करना 880.9  
**अवैधता**  
अधिकारहीनता 898.1  
अवैधता 878.15 ⇨  
असंवैधानिकता 878.18  
**अवैध प्रेम**  
विवाह अनिष्टः 806.1  
**अवैध बाज़ार**  
घोर बाज़ार 865.12  
**अवैधव्य**  
सुहाग 803.11  
**अवैध व्यापार**  
अवैध व्यापार 865.6 ⇨  
**अवैध व्यापारी**  
अवैध व्यापारी 865.23 ⇨  
**अवैधानिक**  
संविधान असम्मत 878.30  
**अवैधानिकता**  
असंवैधानिकता 878.18  
**अवैधीकरण**  
विनिषेध 880.5  
**अवैधन्य**  
सर्व सहमति 337.4  
**अवैधनस्य**  
सौमनस्य 705.18  
**अवैधक**  
सामूहिक 690.13  
**अवैधकता**  
सामूहिकता 690.2  
**अवैराग्य**  
अविरक्ति 365.2  
**अव्यंग**  
अवक 974.17

## अव्ययजन

**अव्ययजन**  
 अपरिभाष्य 317.20  
**अव्यक्त**  
 अकथित 429.20  
 अनभिव्यक्त 429.19  
 अनुच्चारित 411.18  
 आत्मा 763.1  
 ईश्वर 764.1  
 ब्रह्म 764.24  
 महत् तत्त्वं 764.31  
 रक्षित (रहस्य) 823.14  
 विलुप्त 824.24  
 विष्णु 768.1  
 सूक्ष्म शरीर 139.2  
**अव्यक्त क्रिया**  
 बीज गणित क्रिया 953.5  
**अव्यक्त गणित**  
 अव्यक्त गणित 952.4 ⇨  
 बीज गणित 953.4  
**अव्यक्तता**  
 अस्पष्टता 823.1  
**अव्यक्त भाव**  
 अंतर्निहित अर्थ 426.8  
**अव्यक्त राशि**  
 अज्ञात राशि 952.8  
**अव्यक्त लिंग**  
 महत् तत्त्वं 764.31  
 मूल प्रकृति 762.2  
**अव्यक्तगत**  
 सामूहिक 690.13  
**अव्यग्र**  
 निरुद्दिग्ग्न 378.9  
**अव्यग्रता**  
 निरुद्दिग्ग्नता 378.3  
**अव्यतीत**  
 अव्यतीत 74.4 ⇨  
**अव्यथिपी**  
 मध्य रात्रि 48.11  
**अव्यपदेश्य**  
 निर्विकल्प ज्ञान 761.7  
**अव्यभिचार**  
 विवाह निष्ठा 805.1  
**अव्यय**  
 अनन्तर 37.9  
 अपरिवर्तनशील 533.10  
 अव्यय 425.3 ⇨  
 ब्रह्म 764.24  
 विष्णु 768.1  
**अव्ययसाध्य**  
 अव्ययसाध्य 644.21 ⇨  
**अव्ययार्थ**  
 उपयोगी 524.18  
 लक्ष्यानुगामी 931.22  
**अव्ययबन्धन**  
 अवरोधहीन 1049.13  
 अवरोधहीनता 1049.4  
 सटापन 31.2

**अव्ययवसायी**  
 अप्रयत्नशील 490.9  
 धैर्यहीन 395.27  
**अव्ययवस्था**  
 अव्ययस्थितता 894.5  
 उपद्रव्य 903.1  
 क्रमहीनता 892.1  
 विधिहीनता 515.1  
 शासनहीनता 894.1  
**अव्ययस्थित**  
 अव्ययस्थित 894.9 ⇨  
 क्रमहीन 992.5  
 विधिहीन 515.7  
 शासनहीन 894.7  
**अव्ययस्थिततः**  
 क्रमहीनतः 992.7  
**अव्ययस्थितता**  
 अव्ययस्थितता 894.5 ⇨  
 क्रमहीनता 992.1  
 विधिहीनता 515.1  
 शासनहीनता 894.1  
**अव्ययस्थित पलायन**  
 भगदङ्क 918.8  
**अव्ययस्थित शासन**  
 शासनहीनता 894.1  
**अव्ययस्थित समूह**  
 अव्ययस्थित समूह 690.4 ⇨  
**अव्ययस्थित होना**  
 अव्ययस्थित होना 894.6 ⇨  
**अव्ययवहार**  
 अपरस्परता 897.7  
**अव्ययवहार कुशल**  
 व्यवहार अकुशल 829.9  
**अव्ययवहार्य**  
 अनुपमोग्य 525.7  
 असाध्य 519.22  
 जाति निर्वासित 870.28  
**अव्ययवहित**  
 सटा [सटी] 31.8  
**अव्ययवहृत**  
 अनुपमुक 525.6  
 अभुक्त 364.9  
**अव्ययवहृतता**  
 अभुक्तता 364.2  
**अव्ययवहृत्य**  
 अनुपमोग्य 525.7  
**अव्ययसन**  
 व्यसनहीन 813.14  
 व्यसनहीनता 813.5  
**अव्ययस्त**  
 अवकाशपूर्ण 494.23  
 अव्यस्त 503.12 ⇨  
**अव्ययस्तता**  
 अव्ययस्तता 503.4 ⇨  
 विश्राम काल 494.2  
**अव्ययकुल**  
 निरुद्दिग्ग्न 378.9

**अव्ययकुलता**  
 निरुद्दिग्ग्नता 378.3  
**अव्ययकृत**  
 मूल प्रकृति 762.2  
**अव्ययकृत अवस्था**  
 ब्रह्मलीन अवस्था 257.5  
**अव्ययकृता वाचा**  
 अव्ययकृता वाचा 299.3 ⇨  
**अव्ययपकृता**  
 संकीर्णता 980.11  
**अव्ययपत**  
 संकीर्ण 980.29  
**अव्ययपति**  
 संकीर्णता 980.11  
**अव्ययवर्तन**  
 उच्चक्रण 1033.10  
**अव्ययवहारिक**  
 अव्ययवहारिक 829.8 ⇨  
**अव्ययवहारिक आदर्श**  
 अव्ययवहारिक आदर्श 829.6 ⇨  
**अव्ययवहारिक ज्ञान**  
 किताबी ज्ञान 305.12  
**अव्ययवहारिकता**  
 अव्ययवहारिकता 829.1 ⇨  
 व्यवहार अकुशलता 829.2  
**अव्ययवहारिकतापूर्ण**  
 व्यवहार अकुशल 829.9  
**अव्ययवर्षा**  
 अजन्म 247.2  
**अव्ययल**  
 उत्तम 313.13  
 पहला [पहली] 948.85  
 प्रथम स्थानीय 707.11  
**अव्ययक**  
 अनाशकित 78.7  
 आपत्तिहीन 326.21  
 सुरक्षित 908.27  
**अव्ययका**  
 संदेहहीनता 340.6  
**अव्ययकित**  
 आपत्तिहीन 326.21  
 संदेहहीन 340.20  
 सुरक्षित 908.27  
**अव्ययकी**  
 संदेहहीन 340.20  
**अव्ययकुन**  
 अक्षुण्ण शकुन 262.3  
**अव्ययक्त**  
 अबलिष्ठ 159.12  
 असहाय 701.8  
 क्षमताहीन 488.15  
 विवश 901.11  
 शक्तिहीन 488.10  
**अव्ययक्तता**  
 अबलिष्ठता 159.3  
 शक्तिहीनता 488.1

**अव्ययकित**  
 शक्तिहीनता 488.1  
**अव्ययक्य**  
 असाध्य 519.22  
 क्षमताहीन 488.15  
**अव्ययक्यता**  
 अव्ययवहारिकता 829.1  
**अव्ययानु**  
 शत्रुहीन 706.17  
**अव्ययान**  
 भक्षण 181.10  
 भोजन कर्म 181.4  
**अव्ययाना**  
 दैत्य स्त्री सूची 783.21  
**अव्ययानि**  
 अग्नि 106.1  
 इंद्र 773.5  
 इंद्र वज्र 928.8  
 मेघ विद्युत् 55.9  
 शस्त्र 922.2  
**अव्ययपथ घोषणा**  
 असाध्य घोषणा 339.22 ⇨  
**अव्ययपथ**  
 अवेदीय 740.63  
 ब्रह्म 764.24  
**अव्ययस्थित**  
 अकथित 429.20  
 अव्यनित 295.5  
**अव्ययसन**  
 इच्छा अपूर्ति 362.1  
**अव्ययसन**  
 जाग्रत अवस्था 265.1  
**अव्ययसाध्य शायी**  
 भूमिशायी 1027.21  
**अव्ययशरणी**  
 अनाथ 719.5  
 असहाय 701.8  
 साधनहीन 558.20  
**अव्ययशरणतः**  
 असहायतः 701.10  
**अव्ययशरण शरण**  
 ईश्वर 764.1  
**अव्ययशक्त**  
 सध्य 733.13  
**अव्ययशक्ती**  
 अशरणी 629.8 ⇨  
 गुल मोहर 14.12  
 स्वर्ण सिक्का 629.4  
**अव्ययशरीर**  
 अशरीरी 139.14  
 कामदेव 773.12  
**अव्ययशरीरता**  
 निराकारता 967.2  
**अव्ययशरीरी**  
 अशरीरी 139.14 ⇨  
 अशरीरीक 139.12  
 देवता 772.1  
 निराकार 967.13

परलीकिक 258 14	अशाखित	अशुकस	अशुभ दृष्टि
ब्रह्म 764 24	शाखाहीन 114 16	अश्वेत 289.66	ग्रहदोष 261 25
ब्रह्मा 766 1	अशात	अशुधि	अशुभ मुहूर्त
अशात	कुठित 270 2	मलिनता 217 1	अनिष्ट योग 261.30
परतुकताहीन 339 38	अशारीरिक	अशुधिता	अमंगल काल 797.3
अशाततः	अशारीरिक 139 12 ⇨	आहार अशौच 198 7	अशुभ शकुन
अपरतुकत 339 51	अशालीन	मलिनता 217.1	अशुभ शकुन 762.3 ⇨
अशातता	असभ्य 734 14	अशुद्ध	अशुभ संभावना
अपरतुकता 339 12	घृष्ट 734 20	अपरिष्कृत 533 12	आशंका 377 1
अशाक्री	अशालीनता	अविशुद्ध 219 8	अशुभ संस्कार
अशाक्री 629 8	असभ्यता 734 1	अशौच (आहार) 198 14	अमंगल कार्य 797.1
अशाक दाल	अशाश्वत	उच्छिष्ट 198 11	अशुभ समाचार
अशाक दाल 188 4 ⇨	अशाश्वत 38.6 ⇨	खोटा [खोटी] 98 13	कुसमाधार 440 3
अशास्त्र	नश्वर 38 7	मलिन 217 6	अशुभ सूचक
शास्त्रहीन 930 7	परिवर्तनशील 532 17	अशुद्ध उच्चारण	अकल्याण सूचक 711.10
अशास्त्रीकरण	अशाश्वतता	अशुद्ध उच्चारण 411.5 ⇨	अशुभसूचक भवन
अशास्त्रीकरण 906 9 ⇨	अशाश्वतता 38.1 ⇨	अशुद्धयित	सिंहमुखी भवन 602.31
अशास्त्रीकरण करना	परिवर्तनशीलता 532 2	दुराशय 818 9	अशुभेषुक
अशास्त्रीकरण करना 906 12 ⇨	अशासित	अशुद्धता	अकल्याण कामी 711 11
अशास्त्रीकृत	असयमी 809 9	अविशुद्धता 219 3	अशुभ
अशास्त्रीकृत 906 17 ⇨	अशासितता	धातु खोट 98 5	अश्वेत 289 66
अशांत	शासनहीनता 894 1	मलिनता 217 1	अशून्य
अतृप्त 362 6	अशास्त्रीय	अशुद्धमनस्क	सघन 81 15
अस्थिरचित्त 355 7	शास्त्र विरुद्ध 318 8	दुराशय 818 9	अशून्यता
उद्दिग्म 377 13	अशिमित	अशुद्ध मनस्कता	सघन अवस्था 79.8
उपद्रवग्रस्त 903 16	अशिमित 321 42 ⇨	दुराशयता 818.4	अशृत
कोलाहलपूर्ण 294 30	अशित	अशुद्ध स्वर्ण	अपरिपायित 195 66
चिन्ताग्रस्त 377 10	अश्वेत 289 66	अशुद्ध स्वर्ण 95 6 ⇨	अशौच
तरंगित 1040 30	अशिय	अशुद्धाशय	अनवशिष्ट 954 18
दुःखी 391 24	अकल्याण 711 1	दुराशय 818 9	असंख्य 944 8
शिव अशात रूप 767 23	दुर्भाग्य 260 18	अशुद्धाशयता	असीम 1001 34
अशांतचित्तता	भयानक 395 25	दुराशयता 818 4	पूर्णांशिक 940 13
उद्दिग्मता 377 4	अशिश्ट	अशुद्धि	शेष फलहीन 954 16
अशांततः	असभ्य 734 14	अविशुद्धता 219 3	समाप्त 942.20
अतृप्तत 362 7	घृष्ट 734 20	मलिनता 217 1	अशौचता
अशांतता	संसद अयोग्य 889 25	अशुभ	पूर्णांशता 940 5
अस्थिरचित्तता 355 3	अशिश्टतः	अकल्याण 711 1	अशोक
उपद्रव 903 1	असभ्यत 734 24	अकल्याणकारी 711 9	अशोक 13.4 ⇨
तरंगितता 1040 16	अशिश्टता	अकल्याण सूचक 711 10	कामदेवः पुष्य बाण सूची 773 19
अशांत न होना	असभ्यता 734 1	रुलाहीन 403 4	नगर वृक्ष सूची 13 2
शांत होना 372 5	घृष्टता 734 8	दुर्भाग्य 260 18	विष्णु 768.1
अशांत स्वभाव	अशिश्ट भाषा	दुर्भाग्यशाली 260 34	शोकहीन 382.24
अशांत स्वभाव 838.5 ⇨	अपभाषा 433 2	अशुभ उत्सव	शोकहीनता 382.9
अशांत स्वभावी	अशिश्ट भाषा 421.25 ⇨	अमंगल उत्सव 797.2	अशोक चक्र
अशांत स्वभावी 838.13 ⇨	अशिश्टाचारपूर्णतः	अशुभकर	अशोक चक्र 407.17 ⇨
अशांति	असभ्यतः 734.24	अकल्याणकारी 711 9	भारतीय राज्य प्रतीक 408.11
अस्थिरचित्तता 355.3	अशीघ्रतः	अशुभकरता	अशोक वाटिका
आवेश 371 1	विलंबतः 495 16	अकल्याणकारिता 711 2	रावणः उद्यान 784.18
उद्दिग्मता 377.4	अशीघ्रता	अशुभ कामना	अशोक स्तंभ
उद्देग 377.3	विलंब 495.1	अकल्याण कामना 711.3	भारतीय राज्य प्रतीक 408.11
उपद्रव 903 1	अशीति	अशुभ ग्रह	अशोका
उपद्रवग्रस्तता 903.2	अस्सी 948.68	अशुभ ग्रह 261.16 ⇨	पारा 94.9
तरंगितता 1040 16	अशीत्य	अशुभ वर्षी	अशोकानि
वैमनस्य 706 10	असंख्य 734.14	अमंगल काल 797 3	कदंब 13.6
शासनहीनता 894 1	घृष्ट 734.20	अशुभ चिह्न	अशोधित
अशांतिपूर्ण	संसद अयोग्य 889 25	अकल्याण कामी 711.11	अपरिष्कृत 533.12
उपद्रवग्रस्त 903.16	अशीत्यता	अशुभ चिह्न	अविशुद्ध 219.8
	असभ्यता 734.1	अमंगल चिह्न 797.4	



अश्वत्थुर वर्तन (प्र)  
दुःस्वप्न 287.3  
अश्विनी  
नक्षत्र सूची 4.6  
माया घोड़ा 127.36  
अश्विनी कुमार  
अश्विनी कुमार 773.3 ⇨  
देवता: वैद्य 772.10  
यो: उपमान सूची 948.20  
अश्विनी युगल  
अश्विनी कुमार 773.3  
अश्वीष्ठी (प्र)  
सुवदीर्घ मैदान 1063.28  
अश्वेत  
अश्वेत 289.66 ⇨  
काला 289.37  
अश्वेत जाति  
अश्वेत जाति 730.8 ⇨  
अश्वेतता  
कालिमा 289.12  
अश्व  
आठ 948.31  
आठवीं [आठवीं] 948.94  
अश्वक  
आठ अवगुण 761.12  
आठ: समुदाय 887.10  
अश्वकर्ण  
ब्रह्मा 786.1  
अश्वकली ताल  
अठताल 458.46  
अश्व कृष्ण सूची  
अश्व कृष्ण सूची 771.3 ⇨  
अश्वकोण  
अश्वमुज 969.11  
अश्वकीशाल  
पंचायत 892.1  
परामर्श 332.1  
अश्वखंड  
आठ खंडीय 938.58  
अश्वखंडीय  
आठ खंडीय 938.58  
अश्वग्रह  
अश्वग्रह योग 261.31  
अश्वग्रह योग  
अश्वग्रह योग 261.31 ⇨  
अश्वग्रही  
अश्वग्रह योग 261.31  
अश्व ताल  
अठताल 458.46  
अश्वधातु  
अश्वधातु 93.5 ⇨  
अश्वधातु सूची  
अश्वधातु सूची 93.6 ⇨  
अश्व नायिका  
अश्व नायिका 774.45 ⇨  
अश्वपद  
मकड़ी 122.36

अश्वपाटीय  
आठ खंडीय 938.58  
अश्वपाद  
मकड़ी 122.36  
अश्वपार्श्वीय  
अश्वपार्श्वीय 997.18 ⇨  
अश्वपार्ष्व  
अश्वफलक 977.23  
अश्वफलक  
अश्वफलक 977.23 ⇨  
अश्वभागीय  
आठ खंडीय 938.58  
अश्वभुज  
अश्वभुज 969.11 ⇨  
ओक्टोपस 124.4  
अश्वभुजा  
अश्वभुज 969.11  
दुर्गा 776.7  
अश्वन  
आठवाँ [आठवीं] 948.94  
अश्वनी  
अश्वनी 44.14 ⇨  
अश्वनृति  
शिव 767.1  
शिव: आठ रूप 767.25  
अश्वयोग  
योगांग 756.13  
अश्वरूप  
शिव: आठ रूप 767.25  
अश्वलोह  
अश्वधातु 93.5  
अश्वलोहक  
अश्वधातु 93.5  
अश्वांग  
योगांग 756.13  
अश्वांग आयुर्वेद  
आयुर्वेद: आठ अंग 172.6  
अश्वांग वैद्यत  
साश्वांग दंडवत 1060.8  
अश्वांग मार्ग  
अश्वांग मार्ग 737.13 ⇨  
अश्वांग मार्ग सूची  
अश्वांग मार्ग सूची 737.14 ⇨  
अश्वांग योग  
राजयोग 756.12  
अश्वोश  
अश्वोश 949.21 ⇨  
चक्र: आठवाँ भाग 980.5  
अश्वोशिक  
अश्वोशिक 949.40 ⇨  
अश्वोशर मंत्र  
मंत्र सूची 741.4  
अश्वोशवा  
अठारह 948.52  
अश्वोशक  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
कुडील 155.5  
कुबका [कुबकी] 153.23

अश्वोशकता  
अति चक्रता 974.3  
कुबकापन 153.6  
अश्वोशक भूत  
पिशाच 786.8  
अश्वि  
सोलह: उपमान सूची 948.50  
अश्वबाहु  
ओक्टोपस 124.4  
अश्वीला  
गुठली: बीजली 112.4  
बीज 112.1  
बीज: गिरी 112.2  
अश्वकर  
शुद्ध वर्णीय 731.39  
अश्वकरता  
वर्ण शुद्धता 731.30  
अश्वकरता मान  
धातु खरापन 98.4  
अश्वकर धातु  
खरा चौदी सोना 95.2  
अश्वकलन  
अपरिग्रह वृत्ति 360.4  
अश्वकरूप  
दुबिधा 501.1  
अश्वकुल  
अजनाकीर्ण 617.15  
चौरी सडक 1063.35  
विस्तीर्ण 981.10  
सुलझा [सुलझी] 574.15  
अश्वकुलता  
विस्तीर्णता 981.1  
अश्वक्षिप्त  
अश्वक्षिप्त 978.7 ⇨  
आद्योपांत 940.14  
अश्वक्षिप्ततः  
अश्वक्षिप्ततः 978.8 ⇨  
अश्वक्षिप्तता  
अश्वक्षिप्तता 978.3 ⇨  
आद्योपांतता 940.7  
अश्वच्छ  
अश्वच्छ 944.8 ⇨  
अश्वच्छक  
अश्वच्छ 944.8  
अश्वच्छतः  
अश्वच्छतः 944.13 ⇨  
अश्वच्छ्यता  
अश्वच्छ्यता 944.3 ⇨  
अश्वच्छ्या  
असीम संख्या 949.6  
अश्वच्छ्यात  
अश्वच्छ्य 944.8  
अश्वच्छ्येय  
शिव 767.1  
अश्वं  
एकाकी 897.14  
पुरुष 764.21

अश्वंगठन  
एकताहीनता 699.1  
अश्वंगठित  
एकताहीन 699.14  
अश्वंगठितता  
एकताहीनतः 699.20  
अश्वंगठितता  
एकताहीनता 699.1  
अश्वंगत  
अवसर प्रतिकूल 70.15  
अश्वंगत 439.5 ⇨  
असम्य 734.14  
तर्कहीन 325.22  
बकवासपूर्ण 428.25  
विज्ञान विरुद्ध 307.14  
सामंजस्यहीन 701.9  
अश्वंगत तर्क  
कुतर्क 325.3  
अश्वंगतता  
अनर्गलता 353.9  
अवेज्ञानिकता 307.3  
अश्वंगतता 439.1 ⇨  
असामंजस्य 701.3  
अश्वंगत विचार  
अश्वंगत विचार 330.3 ⇨  
अश्वंगति  
अश्वंगतता 439.1  
एकाता 697.3  
तर्कहीनता 325.8  
अश्वंगति (दे.)  
क्रमहीनता 992.1  
अश्वंगम  
असंबंध 715.2  
हटापन 32.3  
अश्वंग्रथित  
प्रथिहीन 574.10  
अश्वंग्रथितता  
प्रथिहीनता 574.1  
अश्वंगनित  
असघन 80.10  
अश्वंगर  
निजी मार्ग 1063.7  
अश्वंगल  
गतिहीन 1042.12  
निरघल 1038.8  
अश्वंगलन  
गतिरोध 1047.2  
गतिहीनता 1042.3  
निरघलता 1038.2  
अश्वंगजात  
अजन्मा 247.7  
अश्वंग  
चेतनाहीन 264.20  
स्पर्शानुभूतिहीन 269.13  
अश्वंग करना  
अवसर करना 264.16  
अश्वंगता  
चेतनाहीनता 264.2

## असंज्ञित

असंज्ञित  
चेतनाहृत 264 21  
असंज्ञीकरण  
निस्संज्ञीकरण 174 7  
असंज्ञीकृत  
चेतनाहृत 264 21  
असंज्ञेय अपराध  
असंज्ञेय अपराध 861 7 ⇨  
असंत  
दुर्जन 818 5  
दुष्कर्मी 812 15  
असंतत  
परिवर्तनशील 532.17  
असंतान  
निस्संतान 240 9  
असंतुलन  
असामजस्य 701 3  
पागलपन 354 14  
असंतुलित  
असमभार 963 17  
कुडील 155 5  
असंतुलितता  
पागलपन 354 14  
असंतुष्ट  
अतृप्त 362 6  
अपूर्णच्छ 362 5  
अप्रसन्न 381 10  
असंतुष्टतः  
अतृप्तता 362 7  
असंतुष्टि  
अतृप्ति 362 2  
असंतोष  
अतृप्ति 362 2  
अप्रसन्नता 381 3  
असंतोषी  
आतुर 496 11  
लोभी 359 31  
असंदर्भता  
संदर्भहीनता 439 3  
असंदिग्ध  
असंदिग्ध 340 19 ⇨  
नियत 88 16  
निर्विवाद 324 24  
स्पष्ट 822 20  
असंदिग्ध अर्थ  
स्पष्ट अर्थ 426 14  
असंदिग्धतः  
संदेहहीनत 340 23  
स्पष्टत 822 32  
असंदिग्धता  
नियतता 68 8  
स्पष्टता 822 1  
असंदिष्ट  
अनियत 68 18  
असंदेह  
संदेहहीनता 340 6  
असंधि  
युतिहीनता 1010 12

असंन्यासी  
अविरक्त 365 7  
असंपत्ति  
असमृद्ध 627 16  
असंपन्न  
अकृत 505.21  
अघटित 75.14  
असमृद्ध 627 16  
असंपन्नता  
असमृद्धि 627 1  
असंपर्क  
असंबंध 715 2  
संपर्कहीन 697 19  
संपर्कहीनता 697 8  
असंपादन  
कार्य असमाप्ति 523 1  
असंपादित  
अकार्यान्वित 505 26  
असमाप्त (कार्य) 523 6  
असंपाद्य  
असाध्य 519.22  
असंपाद्यता  
अव्यावहारिकता 829.1  
असंपुष्ट  
असंपुष्ट 338.37 ⇨  
असंपुष्टि  
असंपुष्टि 338.6 ⇨  
असंपुष्टिकरण  
असंपुष्टिकरण 338.7 ⇨  
असंपूर्ण  
असमाप्त 943 11  
असमाप्त (कार्य) 523 6  
आशिक 939.11  
असंपूर्णतः  
आंशिकतः 939 20  
असंपूर्णता  
अंशता 939 1  
असंपूर्त  
असमाप्त (कार्य) 523 6  
असंपूर्त अंश  
असमाप्त अंश 523 3  
असंपूर्ततः  
असमाप्तत 523 7  
असंपूर्तता  
असमाप्तता 523 2  
असंपूर्त रहना  
समाप्त न हो पाना 523.5  
असंपूर्त होना  
समाप्त न होना 523.4  
असंपूर्ति  
कार्य असमाप्ति 523 1  
असंपूकतता  
द्वैत भाव 752 9  
असंपूक  
तटस्थ 887 11  
असंपूकता  
तटस्थता 887.3

असंबंध  
असंबंध 715.2 ⇨  
संपर्कहीनता 697.8  
असंबंधित  
असंबंधित 715.13 ⇨  
संदर्भहीन 439.7  
सामंजस्यहीन 701.9  
असंबंधितता  
परजन भावना 725.4  
असंबद्ध  
अपक्षधर 887.9  
असंबंधित 715.13  
संदर्भहीन 439.7  
संपर्कहीन 697.19  
असंबद्धता  
अनर्गलता 353.9  
अपक्षधरता 887.1  
क्रमहीनता 992.1  
निर्दलीयता 887 5  
परजन भावना 725 4  
असंबद्ध सामग्री  
विधि सामग्री 669.4  
असंभव  
अघटनीय 75.15  
अव्यावहारिक 829.8  
असंभव 68.14 ⇨  
असमाधान्य 335.12  
असाध्य 519.22  
असंभव को संभव करना  
कठिन कार्य करना 487.17  
असंभव गवेषणा  
व्यर्थ कार्य 506.3  
असंभव घटना  
असंभव घटना 75.7 ⇨  
असंभव घटना: उपमान सूची  
असंभव घटना: उपमान सूची 75.17 ⇨  
असंभवतः  
असंभवतः 68.20 ⇨  
असंभवता  
अव्यावहारिकता 829.1  
असंभवता 68.4 ⇨  
असमाधान्यता 335.4  
असाध्यता 519.6  
असंभव होना  
असंभव होना 68.10 ⇨  
असंभविष्णु  
अभविष्णु 67.9  
असंभार  
अभिभावकहीन 719.9  
असंभावना  
अप्रत्याशा 376.3  
असंभवता 68.4  
असंभावनापूर्ण आशा  
दुराशा 375.2  
असंभावित  
अप्रत्याशित 376.7  
असंभव 68.14

असंभाविता  
असंभवता 68.4  
असंभावी  
असंभव 68.14  
असंभाव्य  
अघटनीय 75.15  
असाध्य 519.22  
असंभाव्यता  
अव्यावहारिकता 829.1  
असंभाव्य  
अकथनीय 429.21  
असंभूत  
अघटित 75.14  
अजन्मा 247 7  
अध्यतीत 74.4  
असंभूति  
अजन्म 247 2  
अनस्तित्व 247.1  
असंयत  
अस्थिरचित्त 355.7  
असंयत  
असन्नद 492.19  
असंयम  
असंयम 809.3 ⇨  
कुपध्याहार 182.8  
असंयम करना  
संयम न बरतना 809.5  
असंयमित व्यवहार  
हेकड़ी 734 10  
असंयमी  
असंयमी 809 9 ⇨  
असंयुक्त  
युतिहीन 1010 25  
विलग्न 1011.5  
असंयुक्तता  
विलग्नता 1011.2  
असंरक्षित  
अभिभावकहीन 719.9  
असंलग्न  
अपक्षधर 887.9  
अप्रवृत्त 503.11  
तटस्थ 887.11  
विलग्न 1011.5  
असंलग्नता  
अतिरिक्तता 945.1  
अपक्षधरता 887.1  
तटस्थता 887.3  
विलग्नता 1011.2  
असंलग्न  
अपिभ्रमण 1008.17  
असंलिप्त  
अनालेपित 292.14  
असंलग्न  
असंयुत उच्चारण 411.7  
असंवार  
असंयुत उच्चारण 411.7  
असंभूत उच्चारण  
असंयुत उच्चारण 411.7 ⇨



असंयुक्त केश  
असंयुक्त केश 223.6 ⇨  
असंवेधानिक  
संविधान असम्मत 878.30  
असंवेधानिकता  
असंवेधानिकता 878.18 ⇨  
असंशयात्मा  
संदेहहीन 340.20  
असंशयालु  
संदेहहीन 340.20  
असंशयी  
संदेहहीन 340.20  
असंश्लिष्ट  
युतिहीन 1010.25  
विलग्न 1011.5  
असंसक्त  
विभाजित 699.16  
असंसदीय  
ससद अयोग्य 889.25  
सभा अयोग्य 694.29  
असंसारी  
अनासक्त 366.5  
असंस्कृत  
अपरिष्कृत 533.12  
अशिक्षित 321.42  
असभ्य 734.14  
कलाहीन 403.4  
भदेस 403.6  
असंस्कृतता  
असभ्यता 734.1  
भदेसपन 403.3  
असंस्थित  
जंगम 1037.18  
धैर्यहीन 395.27  
असंस्थितता:  
क्रमहीनता 992.7  
असंस्थितता  
जंगमता 1037.2  
असंस्मृत  
अस्मृत 357.9  
असंस्थीकृति  
अपराय अस्थीकृति 876.10  
अस  
ऐसा 317.30  
ऐसे 514.23  
असफल  
आंशिक 939.11  
असफलता  
अंशता 939.1  
असक्रिय  
गतिविधिहीन 503.13  
असक्रियता  
गतिविधिहीनता 503.5  
असक्षा  
मित्रहीन 705.29  
असगुन  
अशुभ शकुन 262.3

असगोत्र  
विगोत्र 729.14  
असगोत्रता  
विगोत्रता 729.3  
असघन  
अजनाकीर्ण 617.15  
असघन 80.10 ⇨  
असघन बुना 576.31  
विरल 1005.9  
असघनता  
असघनता 80.3 ⇨  
विरलता 1005.2  
असघन बुना  
असघन बुना 576.31 ⇨  
असघन बुनावट  
असघन बुनावट 576.14 ⇨  
असजग  
असायधान 498.6  
असज्जन  
दुर्जन 818.5  
असज्जनता  
दुर्जनता 818.1  
असज्जित  
असन्नद्ध 492.19  
असज्जितता  
असन्नद्धता 492.7  
असतत  
अशाश्वत 38.6  
परिवर्तनशील 532.17  
विरामयुक्त 1048.4  
असतता  
अशाश्वतता 38.1  
असतर्क  
असायधान 498.6  
असती  
पतिव्रतहीनता 806.9  
व्यभिचारिणी 806.11  
असतीत्य  
पतिव्रतहीनता 806.2  
असती स्त्री  
पतिव्रतहीन स्त्री 806.3  
असत्-  
अवर्तमान 66.7  
असत्कार  
असत्कार 185.1 ⇨  
असत्कार करना  
सत्कार न करना 185.4  
असत्कार कृत  
असत्कृत 185.6  
असत्कारपूर्णातः  
सत्कारहीनता 185.10  
असत्कृत  
असत्कृत 185.6 ⇨  
असत्ता  
अनस्तित्व 247.1  
असत्य  
क्षमताहीन 488.15

असत्युत्र  
कपूत 718.4  
असत्य  
अघरितार्थ 439.9  
असत्य 821.1 ⇨  
असत्यतापूर्ण 821.16  
तथ्यहीन 821.22  
असत्य कथन  
असत्य कथन 821.5 ⇨  
असत्य करना  
असत्य सिद्ध करना 821.13  
असत्य कहना  
असत्य कहना 821.14 ⇨  
असत्यतः  
असत्यत 821.23 ⇨  
असत्यता  
असत्यता 821.2 ⇨  
असत्यतापूर्ण  
असत्यतापूर्ण 821.16 ⇨  
असत्यभाषी  
असत्यवादी 821.17  
असत्य वचन  
असत्य वचन 821.3 ⇨  
असत्यवादिता  
असत्यवादिता 821.4 ⇨  
असत्यवादी  
असत्यवादी 821.17 ⇨  
असत्यशील  
असत्यवादी 821.17  
असत्यसिद्ध  
असत्यतापूर्ण 821.16  
असत्य सिद्ध करना  
असत्य सिद्ध करना 821.13 ⇨  
असत्य सिद्ध होना  
चरितार्थ न होना 439.4  
असत्य होना  
असत्य होना 821.12 ⇨  
असवाचा  
दुरचरित्रता 811.1  
असवाचारिणी  
दुरचरित्रा 811.6  
असवाचारी  
दुरचरित्र 811.5  
असवाशय  
अकल्याण कामी 711.11  
असदाशयता  
अकल्याण कामना 711.3  
दुराशयता 818.4  
असदुस्लाह  
अली 791.5  
असदृश  
अनुपम 312.17  
असदृश 310.6 ⇨  
असदृश्य  
असदृश 310.6  
असदृश्यता  
अमादृश्य 310.1

असदृश्य होना  
असादृश्य होना 310.4  
असद्-  
बुरा [बुरी] 314.10  
असद्गता  
निकृष्टता 314.1  
असद्गर्भ  
कुथर्म 735.3  
असद्भाव  
वैमनस्य 706.10  
असद् व्यवहार  
दुर्व्यवहार 831.1  
असनातन  
नश्वर 38.7  
परिवर्तनशील 532.17  
असनातनता  
परिवर्तनशीलता 532.2  
असन्नद्ध  
असन्नद्ध 492.19 ⇨  
असन्नद्धता  
असन्नद्धता 492.7 ⇨  
असन्निकट  
दूरी पर 32.10  
असन्निधि  
अनुपस्थिति 1022.2  
असन्निहित  
असन्नद्ध 492.19  
असपत्न  
शत्रुहीन 706.17  
असर्पिड  
पृथकपिड रिरतेदार 729.9  
असफल  
अनुत्तीर्ण 322.40  
असफल 513.4 ⇨  
पराजित 913.5  
भग्नप्रतिज्ञा 338.49  
लक्ष्य ध्युत 931.23  
हताश 376.6  
असफलता:  
असफलता 513.5 ⇨  
असफलता  
असफलता 513.1 ⇨  
क्रीडा लक्ष्य अप्राप्ति 475.25  
पराजय 913.1  
असफल लक्ष्य  
असफल लक्ष्य 931.5 ⇨  
असफल लौटना  
असफल लौटना 513.3 ⇨  
असफल विद्रोह  
असफल विद्रोह 903.4 ⇨  
असफल होना  
असफल होना 513.2 ⇨  
असबाब  
असबाब 1087.31 ⇨  
सामान 1061.6  
सामान 666.3  
असभ्य  
असभ्य 734.14 ⇨

**असभ्यतः**

संसद अयोग्य 889.25  
 सभा अयोग्य 694.29  
**असभ्यता:**  
 असभ्यतः 734.24 ⇨  
**असभ्यता**  
 असभ्यता 734.1 ⇨  
**असभ्य बनना**  
 असभ्य बनना 734.11 ⇨  
**असभ्य भाषा**  
 अशिष्ट भाषा 421.25  
**असभ्यीकरण**  
 असभ्यीकरण 734.2 ⇨  
**असभ्यजस**  
 दुबिया 501.1  
**असभ्यजसकारी**  
 दुबिधाजनक 501.9  
**असभ्यजसग्रस्त**  
 दुबिधाग्रस्त 501.8  
**असभ्यजसहीन**  
 दुबिधाहीन 500.13  
**असभ्यजसहीनता**  
 दुबिधाहीनता 500.4  
**असभ्य**  
 असदृश 310.6  
 असभ्य 28.11 ⇨  
 असभ्यकक्ष 851.6  
 असभ्यतल 987.6  
 असभ्यभार 963.17  
 असभाकार 978.5  
 डेलाकार 976.22  
**असभ्यकक्ष**  
 असभ्यकक्ष 851.6 ⇨  
**असभ्यकक्षता**  
 असभ्यकक्षता 851.2 ⇨  
**असभ्य काल**  
 भिन्न काल 60.1  
**असभ्यकालीन**  
 भिन्न कालीन 80.11  
**असभ्य कालीनता**  
 भिन्न कालीनता 60.2  
**असभ्य कोण**  
 विषम कोण 970.3  
**असभ्यकक्ष**  
 असभ्यकक्ष 1022.6 ⇨  
**असभ्यकक्षता**  
 असभ्यकक्षतः 1022.8 ⇨  
 गुप्तातः 824.29  
**असभ्यकक्षता**  
 असभ्यकक्षता 1022.1 ⇨  
**असभ्यगुणता**  
 असादृश्य 310.1  
**असभ्यग्र**  
 आंशिक 939.11  
**असभ्यग्रता**  
 अंशता 939.1  
**असभ्य घन**  
 विषम घन 977.19

**असभ्य चक्रित**  
 केंद्रहीन 971.23  
**असभ्यचित्त**  
 असभ्यव्यवहारी 831.12  
 धैर्यहीन 395.27  
**असभ्यचेला**  
 असभ्यव्यवहारी 831.12  
**असभ्यत**  
 क्रोधी 707.2  
**असभ्यतल**  
 असभ्यतल 987.6 ⇨  
**असभ्यतलता**  
 असभ्यतलता 987.1 ⇨  
**असभ्यतल भूमि**  
 असभ्यतल भूमि 987.2 ⇨  
**असभ्यतल मार्ग**  
 असभ्यतल मार्ग 1063.10 ⇨  
**असभ्यता**  
 असभ्यतलता 987.1  
 असभ्यव्यवहार 831.3  
 जातीय भेदभाव 884.30  
**असभ्य दर्शन**  
 पक्षपातपूर्णता 885.2  
**असभ्य दर्शी**  
 पक्षपाती 885.35  
**असभ्यनेत्र**  
 शिय 767.1  
**असभ्यविड**  
 डेलाकार 976.22  
**असभ्यभार**  
 असभ्यभार 963.17 ⇨  
**असभ्यमिति**  
 असभ्यमिति 1026.9 ⇨  
**असभ्यमिति**  
 असभ्यमिति 1026.3 ⇨  
**असभ्यमय**  
 अनुपयुक्त अवसर पर 70.17  
 असभ्ययानुसार 62.13  
**असभ्यमयतः**  
 असभ्ययानुसारतः 62.23  
**असभ्यमयता**  
 अकालजातता 62.6  
 अनियमितता 71.3  
 असभ्ययानुसारता 62.1  
**असभ्ययानुसार**  
 असभ्ययानुसार 62.13 ⇨  
**असभ्ययानुसारतः**  
 असभ्ययानुसारतः 62.23 ⇨  
**असभ्ययानुसारता**  
 असभ्ययानुसारता 62.1 ⇨  
**असभ्यरस**  
 परिवर्तनशील 532.17  
**असभ्यः राजधानी**  
 असभ्यः राजधानी 28.12 ⇨  
**असभ्यरूप**  
 असभ्यरूप 987.22 ⇨  
**असभ्यरूपता**  
 असभ्यरूपता 987.11 ⇨

**असादृश्य** 310.1  
**असामर्थ**  
 क्षमताहीन 488.15  
 विकलांग 153.15  
 विवश 901.11  
**असामर्थता**  
 क्षमताहीनता 488.4  
 विवशता 901.3  
**असामलक्षण**  
 असदृश 310.6  
**असामलक्षणता**  
 असादृश्य 310.1  
**असाम विभाजन**  
 विषम विभाजन 699.8  
**असामव्यवहार**  
 असामव्यवहार 831.3 ⇨  
**असामव्यवहार करना**  
 असामव्यवहार करना 831.7 ⇨  
**असामव्यवहारी**  
 असामव्यवहारी 831.12 ⇨  
**असामशर**  
 कामदेव 773.12  
**असामस्त**  
 आंशिक 939.11  
**असामस्तता**  
 अंशता 939.1  
**असामस्तपु**  
 असमत्तल 987.6  
**असामस्तरता**  
 असमत्तलता 987.1  
**असामाजस्य**  
 वैमनस्य 706.10  
**असामांतर**  
 कोणयुक्त 970.12  
**असामांशी**  
 असमान अंशीय 939.13  
**असमाकार**  
 असमाकार 978.5 ⇨  
**असमागम**  
 पृथक्चर्या 697.1  
**असमाधान**  
 असमाधान 335.3 ⇨  
**असमाधानित**  
 असमाधानित 335.11 ⇨  
**असमाधान्य**  
 असमाधान्य 335.12 ⇨  
**असमाधान्यता**  
 असमाधान्यता 335.4 ⇨  
**असमाधिकारी**  
 असमकक्ष 851.6  
**असमान**  
 अनुपम 312.17  
 असदृश 310.6  
 असमकक्ष 851.6  
 असमभार 963.17  
 असमाकार 978.5  
 असमान अंशीय 939.13  
 कुलीन अकुलीन 728.14

**असमान अंशीय**  
 असमान अंशीय 939.13 ⇨  
**असमान अधिकार**  
 असमकक्षता 851.2  
**असमानता**  
 अनुपमता 312.4  
 असमकक्षता 851.2  
 असादृश्य 310.1  
 कुलीनता अकुलीनता 728.1  
 जातीय भेदभाव 884.30  
**असमानता दूर करना**  
 समकक्ष करना 851.4  
**असमान व्यवहार**  
 असमव्यवहार 831.3  
**असमानाधिकार**  
 असमकक्षता 851.2  
**असमानाधिकारी**  
 असमकक्ष 851.6  
**असमापन**  
 कार्य असमाप्ति 523.1  
**असमाप्य**  
 अपूर्ण रचित 528.8  
 असमाप्य 943.11 ⇨  
 असमाप्य (कार्य) 523.6  
**असमाप्य (कार्य)**  
 असमाप्य (कार्य) 523.6 ⇨  
**असमाप्य अंश**  
 असमाप्य अंश 523.3 ⇨  
**असमाप्यतः**  
 असमाप्यतः 523.7 ⇨  
**असमाप्यता**  
 असमाप्यता 523.2 ⇨  
**असमाप्य रहना**  
 समाप्य न हो पाना 523.5  
**असमाप्यि**  
 असमाप्यि 943.3 ⇨  
 कार्य असमाप्यि 523.1  
**असमाप्य**  
 असमाप्य 943.12 ⇨  
**असमाप्यता**  
 असमाप्यता 943.4 ⇨  
**असमाप्यिष्ट**  
 अतिरिक्त 945.4  
**असमाप्यिष्टता**  
 अतिरिक्तता 945.1  
**असमावेश**  
 अतिरिक्तता 945.1  
**असमाहार**  
 वियोग 388.1  
**असमाहित**  
 उद्धरण 377.13  
 ध्यानहीन 331.13  
**असमाधिया**  
 भारतः राष्ट्रभाषा सूची 421.4  
**असमीचीन**  
 अवसर प्रतिकूल 70.15  
 अंसंगत 439.5  
 संदर्भहीन 439.7

असमीप  
अनासन्न 87.11  
दूरस्थ 32.7  
असमीपता  
दूरता 32.1  
असमुपस्थित  
अनुद्यत 492.18  
असमृद्धतः  
व्यक्तिशः 689.4  
असमृद्ध  
असमृद्ध 627.16 ⇨  
असमृद्धता  
असमृद्धि 627.1  
असमृद्धि  
असमृद्धि 627.1 ⇨  
असम्मत  
अनुमति अदत्त 338.35  
शास्त्र विरुद्ध 318.8  
असम्मति  
अनुमति 338.3  
अस्वीकृति 338.1  
मतभेद 338.4  
असम्मान  
अपमान 855.1  
असम्मित  
असंख्य 944.8  
असम्भिलन  
अमिश्रण 1008.17  
असम्भिश्रण  
अमिश्रण 1008.17  
असम्भिश्रित  
अमिश्रित 1008.30  
असम्भिश्रितता  
अमिश्रितता 1008.18  
असम्मुख  
अनुद्यत 492.18  
असमक्ष 1022.6  
असम्बोधित  
अलुब्ध 360.18  
असम्बोध्य  
अलुब्ध 360.17  
असम्बन्ध  
असंगत 439.5  
असर्वाज्ञ  
प्रभावशाली 511.17  
असर्वाज्ञी  
प्रभावशालिता 511.2  
असर्वा  
प्रताप क्षेत्र 849.8  
प्रभाव 511.1  
मुद्रण छाप 419.6  
संगति प्रभाव 698.5  
असर्करना  
प्रभावित करना 511.9  
असर्कालना  
प्रभावित करना 511.9  
असर्कार  
प्रभावशाली 511.17

असरिया  
शरणागत 910.12  
असर्जक  
अरचेता 528.7  
असर्जित  
मानव अरचित 528.9  
असर्वांग  
आंशिक 939.11  
असर्वांगतः  
आंशिकतः 939.20  
असर्वांगता  
अंशता 939.1  
असर्वांगीणता  
विकलांगता 153.2  
असल  
औरस 716.15  
मुद्रण पांडुलिपि 412.30  
मूल कृति 397.25  
मूलधन 633.9  
मूल पाठ 412.32  
वास्तविक 820.23  
विशुद्ध 219.7  
असल में  
सत्यत 820.25  
असला  
आयुध 922.1  
असलियत  
औरसता 716.2  
धातु खरापन 98.4  
वास्तविकता 820.13  
स्वाभाविकता 836.7  
असलियत मालूम करना  
तथ्यान्वेषण करना 336.16  
असली  
उच्च कुलीन 728.15  
औरस 716.15  
खरा [खरी] 98.12  
मानव अरचित 528.9  
मौलिक 397.36  
वास्तविक 820.23  
शुद्ध वर्णीय 731.39  
सहोदर 723.27  
स्वाभाविक 836.11  
असलीपन  
औरसता 716.2  
जनन संबंध 716.1  
मौलिकता 397.23  
असली बात  
मूल तथ्य 820.18  
असली मित्रता  
निस्वार्थ मित्रता 705.9  
असलीयत पता चलना  
पाखंड अनावृत होना 822.19  
असली रूप  
आंतरिक रूप 967.7  
असवार  
अस्वारोही 1082.8  
आकृष्ट 1082.29

आरोही 1082.2  
असवारी  
अस्वारोहण 1082.5  
आरोहण 1082.1  
आरोही 1082.2  
असह  
असहिष्णु 873.13  
असह्य 873.14  
धैर्यहीन 395.27  
असहकर्म  
असहयोग 701.1  
असहकर्मी  
असहयोगी 701.7  
असहकार  
असहयोग 701.1  
असहकारिता  
असहयोग 701.1  
असहकारी  
असहयोगी 701.7  
असहकालीन  
मित्र कालीन 60.11  
असहचर  
पृथकचर 697.12  
असहचर्य  
एकांतता 697.3  
असहचर्या  
पृथकचर्या 697.1  
असहज  
अस्थिरचित्त 355.7  
अस्वाभाविक 836.12  
कठिन 519.18  
असहजता  
अस्थिरचित्तता 355.3  
कठिनता 519.1  
असहन  
असहन 873.5 ⇨  
प्रहार असहन 919.1  
असहनशील  
असहिष्णु 873.13  
क्रोधी 373.29  
विडविड [विडविडी] 373.32  
असहनशीलता  
असहिष्णुता 873.4  
असहनीय  
असह्य 873.14  
असहमत  
प्रतिरोधी 329.25  
असहमत होना  
मतभेद होना 338.20  
असहमति  
अनुमति 338.3  
अस्वीकृति 338.1  
आपत्ति 326.4  
प्रतिरोध 329.4  
मतभेद 338.4  
विरोध 886.4  
असहमति अभिव्यक्ति  
मतभेद प्रदर्शन 338.5

असहमति प्रकट कर्ता  
प्रतिरोधी 329.25  
असहयोग  
असहयोग 701.1 ⇨  
सत्ता विरोध 902.7  
असहयोग आंदोलन  
असहयोग आंदोलन 904.3 ⇨  
असहयोगी  
असहयोगी 701.7 ⇨  
असहयतिता  
मित्र कालीनता 80.2  
असहयती  
मित्र कालीन 60.11  
असहाय  
अनाथ 719.5  
अवलंबनहीन 649.10  
असहाय 701.8 ⇨  
क्षमताहीन 488.15  
मित्रहीन 705.29  
लैंगडा लुला 153.20  
विकलांग 153.15  
विकल्पहीन 516.5  
विवश 901.11  
साधनहीन 558.20  
असहायक  
असहयोगी 701.7  
असहायकता  
असहयोग 701.1  
असहाय क्रोध  
खीज 373.4  
असहायतः  
असहायत 701.10 ⇨  
एकांततः 697.21  
विवशतः 901.13  
असहायता  
अवलंबनहीनता 649.2  
असहयोग 701.1  
असहायता 701.2 ⇨  
क्षमताहीनता 488.4  
विकल्पहीनता 516.3  
विवशता 901.3  
साधनहीनता 558.3  
असहायता अनुमति  
खीज 373.4  
असहाय होना  
असहाय होना 701.5 ⇨  
असहिष्णु  
असहिष्णु 873.13 ⇨  
उग्रवादी 343.21  
असहिष्णुता  
असहिष्णुता 873.4 ⇨  
असहोदर  
असहोदर 723.28 ⇨  
असहोदरता  
असहोदरता 723.20 ⇨  
असहोदरत्व  
असहोदरता 723.20

## असह्य

असह्य	खोटा [खोटी] 98 13
अति उष्ण 104 20	दुर्जन 818 5
असह्य 873.14 ⇨	दुश्चरित्र 811 5
असह्य को सहन करना	असामुता
असह्य को सहन करना 872 10 ⇨	दुर्जनता 818 1
असह्ययता	असाध्य
दुस्सह्यता 873 6	अधिकित्य 171 21
असह्य होना	असाध्य 519.22 ⇨
असह्य होना 873 10 ⇨	असाध्यता
असाध्य	अव्यावहारिकता 829 1
अविचारक 330 23	असाध्यता 519.6 ⇨
असाध्य	असाध्य साधक
असाध्य 80.10	कठिन कार्यक्रम 487.28
असाध्यधिक	असाध्य होना
अपारंपरिक 795.14	असाध्य होना 519.17 ⇨
असाध्यिकता	असाध्यी
अपारंपरिकता 795 3	व्यभिचारिणी 806 11
असाध्यिक	असाध्य
संसद अयोग्य 889.25	अनुपस्थिति 1022 2
असाध्यिकता	असाध्य
अपारंपरिकता 795 3	असाध्य 309.19 ⇨
असाध्यिक	असा बरदार
संसद अयोग्य 889.25	द्वार पहरेदार 908.13
असाध्यिकता	असामंजस्य
व्यवहार अकुशलता 829 2	असामंजस्य 701.3 ⇨
असाध्यिक सुख	असामंजस्यपूर्ण
अलौकिक सुख 390 6	सामंजस्यहीन 701 9
असा	असामयिक
छड़ी 923 3	अकालजात 62 18
डंडा 923 5	अवसर प्रतिकूल 70 15
धातु मैदी लाठी 923 10	असमयानुसार 62 13
असाए शाही	असामयिकता
राजदंड 408 14	अकालजातता 62.6
असाइ	असामर्थ्य
आषाढ 43 10	नपुंसकता 238.4
असाइ	असामाजिक
बटा रेशम 568 14	अंतरामिमुखी 838.14
असादृश्य	असामाजिकता
असादृश्य 310 1 ⇨	अंतरामिमुखता 838.6
असादृश्य होना	असामान्य
असादृश्य होना 310 4 ⇨	असामान्य 312.14 ⇨
असाधन	अस्थिरचित 355 7
साधनहीन 558 20	विलक्षण 312 16
असाधारण	असामान्य जन
असामान्य 312.14	विशिष्ट जन 728.13
आकस्मिक 69 10	असामान्यतः
जिज्ञासाजनक 305 43	अल्पदा 72.10
परलौकिक 258 14	असामान्यत 312 19 ⇨
विलक्षण 312.16	दुर्लभतः 942.25
असाधारणतः	असामान्यता
अल्पदा 72 10	असामान्यता 312.1 ⇨
असामान्यत 312 19	अस्थिरचितता 355 3
असाधारणता	विलक्षणता 312.3
असामान्यता 312 1	व्यक्तित्व 838.1
विलक्षणता 312 3	असामान्य होना
असाधित	सामान्य न होना 312.10
अकार्यान्वित 505 28	असामाजिकता
अकृत 505.21	युतिहीनता 1010.12
वशतर 900 9	
असाधु	
अहितकारी 712 15	
कृतकृत 98 14	

असामी	असितता
अभियुक्त 875.4	कालिमा 289.12
ऋणी 633.35	असित पक्ष
ग्राहक 660.13	कृष्ण पक्ष 45.2
बंधक कर्ता 633 39	असितः फली
लगानदार 553.3	एकपर्णा 776.11
व्यक्ति 689.1	असितगंग वीरव
असामीय	वीरव गण सूची 767.33
अनुपस्थिति 1022.2	असितांगुज
असाध्य	नील कमल 14 5
असमकक्षता 851.2	असिता
असादृश्य 310 1	अप्सरा सूची 782 3
असार	असिताधि
अनुपयोगी 525.8	अग्नि 106 1
अबलिष्ठ 159.12	असितारम
अर्थहीन 426.28	बसाल्ट 99.6
पिलपिला [पिलपिली] 154.32	असितोत्पल
पोला [पोली] 271.25	नील कमल 14.5
प्रयोजनहीन 509.3	असितोत्पल
सारहीन 84.20	नीलम 96 12
असार संसार	असिद्ध
इहलोक 258 11	अकार्यान्वित 505 26
असार्थक	अकृत 505.21
अनुपयोगी 525 8	अपक्व 195 78
असार्थकता	असमाप्त (कार्य) 523 8
अनुपयोगिता 525 2	वशतर 900.9
असार्बज्जुनिकता	असिद्धार्थ
गुप्तता 824.2	असफल 513.4
असालत	असिद्धि
धातु खरापन 98 4	असफलता 513 1
असावधान	असिधारी
असावधान 498.6 ⇨	तलवारधारी 930.11
असावधानतः	असिपत्र
असावधानत 498.8 ⇨	म्यान 924 12
असावधानता	असिपाणि
असावधानी 498 1	खड्गधारी 930 8
असावधान होना	तलवारधारी 930.11
असावधान होना 498.4 ⇨	असिपुष्कक
असावधानी	सूस 124 12
असावधानी 498.1 ⇨	असिपुत्रिका
विस्मृति 357.4	धुरी 561.9
असावधानी में	असिमेट्रिकल (अं)
असावधानतः 498 8	असममित 1026.9
असिचन कृषि	असिलोमा
वर्षासिंचित कृषि 548.17	दानव सूची 783.13
असि	असिस्टेंट (अं)
तलवार 924 7	सहकारी कर्मचारी 852.31
वक्र तलवार 924.9	असीम
असिक्नी	असंख्य 944.8
अंतःपुर दासी 651 11	असीम 1001.34 ⇨
असिगंड	निराकार 967.13
गालः तकिया 593.64	विस्तीर्ण 981.10
असित	असीमता
अन्वेष 289.88	असंख्यता 944.3
ऋषि मुनि सूची 789.17	असीमता 1001.3 ⇨
काला 289.37	निराकारता 967.2
नीला 289.49	असीम संख्यता
	असंख्यता 944.3

**असीम संख्या**

असीम संख्या 949.6 ⇨  
**असीम होना**  
 असीम होना 1001.30 ⇨  
**असीमित**  
 असंख्य 944.8  
 असीम 1001.34  
**असीमितता**  
 अपरिसीमितता 1001.11  
 असंख्यता 944.3  
 असीमता 1001.3  
 विस्तीर्णता 981.1  
**असीमित होना**  
 असीम होना 1001.30  
**असीर**  
 उच्च 982.7  
 कठिन 519.18  
**असीरियाई लिपि**  
 कील लिपि 409.12  
**असीरी**  
 बंदीकृतता 868.5  
**असील**  
 कुलीन जन 728.5  
**असीस**  
 आशीर्वाद 714.4  
**असीसना**  
 आशीर्वाद देना 714.7  
**असुंदर**  
 असुंदर 156.3 ⇨  
**असुंदरता**  
 असुंदरता 156.1 ⇨  
**असुंदरता (दे.)**  
 कुडीलता 155.3  
**असुंदर रंग वाला**  
 असुंदर रंग वाला 289.32 ⇨  
**असुंदर हस्तलेख**  
 कुलेख 412.12  
**असु**  
 घक्र. साठवाँ भाग 960.11  
 विचार 330.1  
 श्वास 245.4  
 हृदय 146.5  
**असुकर**  
 कठिन 519.18  
**असुखकर**  
 कठिन 519.18  
**असुगम**  
 कठिन 519.18  
**असुगम मार्ग**  
 अचलनीय मार्ग 1063.3  
**असुत्याग**  
 आत्मबलि 754.3  
**असुधर**  
 जीव 121.4  
**असुप्य**  
 जाग्रत 265.7  
**असुप्ति**  
 जाग्रत अवस्था 265.1

**असुर**

असुर 783.6 ⇨  
 अहुरमज्द 764.13  
 जीव 121.4  
 ब्रह्म पिशाच 786.10  
 राक्षस 784.1  
 राहु 6.4  
 श्वासयुक्त 245.23  
 समुद्री नमक 279.7  
 हाथी 127.38  
**असुर (दे.)**  
 असुर आदि 783.3  
**असुर आदि**  
 असुर आदि 783.3 ⇨  
**असुरक्षा**  
 शासनहीनता 894.1  
**असुरघ्न**  
 असुर नाशक 783.30  
**असुरता**  
 असुरता 783.5 ⇨  
**असुर दर्शन (म)**  
 दुःस्वप्न 267.3  
**असुर दानव दैत्य राक्षस**  
 असुर दानव दैत्य राक्षस 783.2 ⇨  
**असुर नाश**  
 असुर नाश 783.10 ⇨  
**असुर नाशक**  
 असुर नाशक 783.30 ⇨  
**असुर नाश करना**  
 असुर नाश करना 783.28 ⇨  
**असुर मघ**  
 अहुरमज्द 764.13  
**असुर मर्दक**  
 असुर नाशक 783.30  
**असुर मर्दन**  
 असुर नाश 783.10  
**असुरमर्दन**  
 असुर नाशक 783.30  
**असुर: माता**  
 दनायु 787.14  
**असुर राज**  
 बलि 769.37  
**असुर वध**  
 असुर वध 251.4 ⇨  
**असुर वध करना**  
 असुर वध करना 251.20 ⇨  
**असुर वध कर्ता**  
 असुर वध कर्ता 251.28 ⇨  
**असुर विषयक**  
 असुरीय 783.29  
**असुर शिल्पी**  
 मय 783.20  
**असुर संहार**  
 असुर वध 251.4  
**असुर सूची**  
 असुर सूची 783.8 ⇨  
**असुर स्त्री**  
 असुर स्त्री 783.7 ⇨

**असुर स्त्री सूची**

असुर स्त्री सूची 783.9 ⇨  
**असुरा**  
 रात 48.1  
 राशि 4.7  
 वेरया 807.5  
**असुराचार्य**  
 शुक ग्रह 7.9  
 शुक्राचार्य 789.23  
**असुरादि जोड़ी सूची**  
 असुरादि जोड़ी सूची 783.4 ⇨  
**असुराधिप**  
 बलि 769.37  
 ब्रह्म पिशाच 786.10  
**असुरारि**  
 देयता 772.1  
 विष्णु 768.1  
**असुराष्ट्य**  
 काँसा 94.2  
**असुरी**  
 असुर स्त्री 783.7  
 राक्षस स्त्री 784.2  
**असुरीय**  
 असुरीय 783.29 ⇨  
**असुर्य**  
 असुरीय 783.29  
**असुलभ**  
 दुर्लभ 942.19  
**असुलभता**  
 दुर्लभता 942.5  
**असुवक्त्र**  
 अशुद्ध उच्चारण 411.5  
**असुविधा**  
 असुविधा 519.3 ⇨  
**असुविधाजनक**  
 अवसर प्रतिकूल 70.15  
 असुविधापूर्ण 519.19  
**असुविधापूर्ण**  
 असुविधापूर्ण 519.19 ⇨  
**असुरशील**  
 असम्भ्य 734.14  
**असुरशीलता**  
 असम्यता 734.1  
 धृष्टता 734.8  
**असुराना [असुरहानी]**  
 पीडाप्रद 392.26  
**असुरचना**  
 अपरिज्ञान 306.8  
**असुर्य**  
 दोषदर्शी 843.25  
**असुर्यक**  
 ईर्ष्यालु 709.6  
 दोषदर्शी 843.25  
 निंदक 843.22  
**असुर्या**  
 आठ अवगुण सूची 761.13  
 ईर्ष्या 709.1  
 क्रोध 373.1

**दोष दर्शन 843.9**

**असुर्यपरया**  
 अतपुर ब्रासिनी 591.11  
**असुरल**  
 आदर्श 829.4  
**असुरक्य**  
 असुर दानव दैत्य राक्षस 783.2  
 पिशाच 786.8  
**असुरजन**  
 अरचना 528.1  
**असुरजनशील**  
 रचनाहीन 528.5  
**असुरजनशीलता**  
 रचनाहीनता 528.2  
**असृष्ट**  
 अकर्तृक 505.22  
 अघटित 75.14  
 अरघित 528.6  
**असृष्टा**  
 अरघेता 528.7  
**असृष्टि**  
 अरघना 528.1  
**असेवन**  
 अभोजन 181.5  
**असेव्य**  
 अनाहार्य 197.23  
 अनुपभोग्य 525.7  
**असेंबली (अ)**  
 सभा 694.1  
**असेट्स (अ)**  
 आस्तियाँ 626.21  
**असैनिकिकरण**  
 विसैन्यीकरण 906.8  
**असैन्य**  
 असेन्य 932.36 ⇨  
**असैन्यीकरण**  
 विसैन्यीकरण 906.8  
**असैन्यीकृत**  
 विसैन्यीकृत 906.16  
**असोपधार**  
 अनीपधारिकत 185.11  
**असोम**  
 यक्ष सूची 779.3  
**असोवर्ध**  
 असुंदरता 156.1  
**असोज**  
 आश्विन 43.13  
**असोम्य**  
 अप्रिय 370.5  
 असुंदर 156.3  
 आयिष्ट 371.8  
 कलाहीन 403.4  
 भदेस 403.6  
**असोम्य ग्रह**  
 असुभ ग्रह 261.16  
**असोम्यता**  
 असुंदरता 156.1

## असौष्ठव

### असौष्ठव

असुंदरता 156.1  
कलाहीनता 403.1

### अस्फुरी

सैनिक 934.1

### अस्तंगत

अस्तागत 5.30  
नष्ट 531.7

### अस्तांगमन

अस्तांगमन 5.10

### अस्तांगमनशील

अस्तांगामी 5.31

### अस्तांगामी

अस्तांगामी 5.31

### अस्त

अंत 995.1  
अस्तागत 5.30  
अस्तांगमन 5.10  
नष्ट 531.7  
नाश 531.1  
प्रलय 530.1

### अस्त काल

सायंकाल 47.13

### अस्त कालीन

अस्तांगामी 5.31  
सायंकालीन 47.20

### अस्तागत

अस्तागत 5.30 ⇨

### अस्तागत होना

अस्त होना 5.27

### अस्तांगमन

अस्तांगमन 5.10 ⇨

### अस्तांगामी

अस्तांगामी 5.31 ⇨

### अस्तांगिरि

अस्तांगल 17.9

### अस्त दिशा

पश्चिम 29.12

### अस्ताना

स्तनहीना 146.16

### अस्ताबल

अश्वशाला 603.20  
पशुशाला 603.19

### अस्ताभाग्य

दुर्भाग्यशाली 260.34

### अस्तामन

अस्तांगमन 5.10

### अस्तर

अंतर्पत्र 1002.7  
अस्तर 580.1 ⇨  
पलस्तर 599.27  
लिहाफ़: निचला पल्ला 593.13  
साया 587.13

### अस्तर: कपड़ा

अस्तर 580.1

### अस्तरकारी

पलस्तरण 599.28

### अस्तर लगाना

अंतर्पत्रित करना 1002.19

### अस्ताव्यस्त

अव्यवस्थित 894.9  
क्रमहीन 992.5

### अस्ताव्यस्त कर्ता

क्रम विस्थापक 992.6

### अस्ताव्यस्तातः

क्रमहीनतः 992.7

### अस्ताव्यस्ताता

अव्यवस्थितता 894.5

क्रमहीनता 992.1

### अस्ताव्यस्त होना

क्रमहीन होना 992.4

### अस्त होना

अस्त होना 5.27 ⇨

### अस्ताघल

अस्ताघल 17.9 ⇨  
पौराणिक पर्वत सूची 17.8

### अस्ताघल को जाना

अस्त होना 5.27

### अस्ताघल गमन

अस्तांगमन 5.10

### अस्ताघल दिशा

पश्चिम 29.12

### अस्ति अस्ति

शाबाशी: उद्गार सूची 841.40

### अस्तित्व

अस्तित्व 246.1 ⇨  
प्रतिष्ठा 849.2  
वर्तमानता 66.1

### अस्तित्व (दे.)

जीवन 246.6

### अस्तित्व: अध्ययन

अध्यात्म 761.1

### अस्तित्व ज्ञान का है वस्तु का नहीं

विक्रानवाद 760.24

### अस्तित्व बान

जनन 243.1

### अस्तित्व धारण

अस्तित्व धारण 246.2 ⇨

### अस्तित्व न रहना

अस्तित्व न रहना 247.4 ⇨

### अस्तित्व न होना

अस्तित्व न होना 247.3 ⇨

### अस्तित्व प्रदान

रचना कर्म 527.1

### अस्तित्व बोध

अध्यात्म 761.1

### अस्तित्वमान

अस्तित्वशाली 246.11

जीवित 246.13

वर्तमान 86.6

### अस्तित्व में लाना

प्रस्तव करना 244.11

### अस्तित्व में लाना

रचित करना 527.9

### अस्तित्व में होना

जीवनयुक्त होना 246.10

### अस्तित्व लोप

नाश 531.1

### अस्तित्व लोप होना

नष्ट होना 531.4

### अस्तित्ववाद

आस्तिकतावाद 760.13

### अस्तित्वशाली

अस्तित्वशाली 246.11 ⇨

### अस्तित्वहीन

अवर्तमान 66.7

अस्तित्वहीन 247.6 ⇨

नष्ट 531.7

### अस्तित्वहीन (दे.)

अजीवित 247.8

### अस्तित्वहीनता

अनस्तित्व 247.1

### अस्तित्व होना

अस्तित्व होना 246.8 ⇨

जीवनयुक्त होना 246.10

### अस्तोद्य

धर्म लक्षण सूची 737.29

पंचशील सूची 737.12

### अस्तोदय

उदय अस्त 5.9

उन्नति अवनति 532.3

### अस्त्र

नरतर 174.20

मंत्र प्रेरित शस्त्र 922.4

शस्त्र 922.2

### अस्त्र कंटक

बाण 926.16

### अस्त्रकारक

शस्त्र निर्माता 929.9

### अस्त्रकारी

शस्त्र निर्माता 929.9

### अस्त्र छिद्र

परकोटा: अस्त्र छिद्र 604.15

### अस्त्रजीवी

आयुधजीवी 922.11

### अस्त्रधारी

शस्त्रधारी 930.6

### अस्त्र निर्माण

शस्त्र निर्माण 929.1

### अस्त्र निवारक अस्त्र

योगंधर 921.12

### अस्त्रकला

वीज 13.7

### अस्त्र मंत्र

मंत्र सूची 741.4

### अस्त्र मार्जक

शस्त्र मार्जक 929.10

### अस्त्र मार्जन

शस्त्र मार्जन 929.8

### अस्त्र विराम

युद्ध विराम 906.4

### अस्त्र बंध

धनुर्वेद 740.38

### अस्त्र शस्त्र

आयुध 922.1

अस्त्र शस्त्र विषयक

आयुधीय 922.10

### अस्त्रशाला

शस्त्रागार 929.3

### अस्त्र संचालन

शस्त्र संचालन 930.2

### अस्त्रास्त्रान

अस्त्रास्त्रान 582.18 ⇨

### अस्त्रागार

शस्त्रागार 929.3

### अस्त्री

आयुधजीवी 922.11

शस्त्रधारी 930.6

### अस्त्रीक

विधुर 804.19

### अस्त्रीय

आयुधीय 922.10

### अस्थमा

दमा 163.18

### अस्थिदिर

जंगम 1037.18

### अस्थानु

जंगम 1037.18

### अस्थायिक

जंगम 1037.18

### अस्थायित्व

अल्प कालीनता 38.3

नश्वरता 38.2

### अस्थायी

अंतरिम कालीन 60.12

अल्प कालीन 38.8

गीत: अंतरा 451.22

परिवर्तनशील 532.17

### अस्थायी भाव

संचारी भाव 358.5

### अस्थायी युद्ध समाप्ति

युद्ध विराम 906.4

### अस्थायी वास

अस्थायी वास 618.10 ⇨

अस्थायी वास करना 618.21 ⇨

### अस्थायी विवाह

मुताह 799.5

### अस्थायी स्थान

अस्थायी स्थान 618.15 ⇨

### अस्थायार

अनिर्धारित 328.15

अस्थिर 1037.22

अस्थिर 1060.42

जंगम 1037.18

जंगमगाता [जंगमगाती] 1064.48

### अस्थायारता

जंगमता 1037.2

**अस्थि**  
**अस्थि** 133.1 ⇨  
 बीजः गिरी 112.2  
 भस्मावशेष 254.2  
**अस्थि कलश**  
**अस्थि कलश** 253.5 ⇨  
**अस्थिका**  
 उपास्थि 133.2  
**अस्थिकुण्ड**  
 नरक सूची 259.7  
**अस्थिचर्ममय देह**  
 शरीर 139.1  
**अस्थि च्युति**  
 अस्थि विस्थापना 168.4  
**अस्थिज**  
 इंद्र वज्र 928.8  
**अस्थित**  
 जंगम 1037.18  
 वैयर्थीन 395.27  
**अस्थिधन्वा**  
 शिव 767.1  
**अस्थि पंजर**  
**अस्थि पंजर** 133.5 ⇨  
**अस्थि पात्र**  
 स्तूपः अस्थिपात्र 255.12  
**अस्थिवंध**  
 स्नायु 131.13  
**अस्थि भंग**  
**अस्थि भंग** 168.3 ⇨  
**अस्थिमोजी**  
 कुला 127.71  
**अस्थि मज्जा**  
 मज्जा 132.3  
**अस्थिमय**  
**अस्थियुक्त** 133.21  
**अस्थिमात्र**  
 मांसहीन 132.19  
**अस्थिमाली**  
 शिव 767.1  
**अस्थियुक्त**  
**अस्थियुक्त** 133.21 ⇨  
**अस्थियुजा**  
**अस्थि वैद्य** 174.9  
**अस्थिर**  
**अभियत** 68.18  
**अभिधारित** 328.15  
**अस्थिर** 1037.22 ⇨  
**अस्थिरचित्त** 355.7  
 उद्दिग्म 377.13  
 बलिष्णु 1090.42  
 उगमगता [उगमगती] 1084.46  
 दुविधाग्रस्त 501.8  
 वैयर्थीन 395.27  
 विचलनशील 501.12  
 शासनहीन 894.7  
**अस्थिर गति**  
 उगमगाहट 1084.11

**अस्थिरचित्त**  
**अस्थिरचित्त** 355.7 ⇨  
**अस्थिरचित्त (दे.)**  
 अशांत स्वभावी 838.13  
**अस्थिरचित्तता**  
**अस्थिरचित्तता** 355.3 ⇨  
**अस्थिरचित्तता (दे.)**  
 अशांत स्वभाव 838.5  
**अस्थिरचित्त होना**  
 स्थिरचित्त न होना 355.5  
**अस्थिरण**  
**अस्थिरण** 1037.7 ⇨  
**अस्थिरता**  
 अस्थिरचित्तता 355.3  
**अस्थिरता** 1037.6 ⇨  
 उद्दिग्मता 377.4  
 खानाबदोशी 1090.5  
 उगमगाहट 1084.11  
 दुविधा 501.1  
 शासनहीनता 894.1  
**अस्थिर होना**  
**अस्थिर होना** 1037.14 ⇨  
 उगमगता 1084.35  
**अस्थिल**  
**अस्थियुक्त** 133.21  
**अस्थि विसर्जन**  
**अस्थि विसर्जन** 253.6 ⇨  
**अस्थि विस्थापना**  
**अस्थि विस्थापना** 168.4 ⇨  
**अस्थि वैद्य**  
**अस्थि वैद्य** 174.9 ⇨  
**अस्थि शल्य**  
**अस्थि शल्य** 174.8 ⇨  
**अस्थिरोग**  
 अति क्षीणकाय 159.14  
 भस्मावशेष 254.2  
 मांसहीन 132.19  
**अस्थि क्षमर्षण**  
**अस्थि विसर्जन** 253.6  
**अस्थिसार**  
 मज्जा 132.3  
**अस्थिस्नेह**  
 मज्जा 132.3  
**अस्थिहीन**  
**अस्थिहीन** 133.22 ⇨  
**अस्थीय**  
**अस्थीय** 133.20 ⇨  
**अस्थीय**  
**अस्थिरता** 1037.6  
**अस्थिध**  
**अस्थिग्न** 197.17 ⇨  
 कठोर 269.17  
 शुष्क 89.9  
**अस्थिताल**  
**अस्थिताल** 175.5 ⇨  
**अस्थिरांत**  
**अस्थिरांत** 289.18 ⇨

**अस्पष्ट**  
**अस्पष्ट** 823.11 ⇨  
**अस्पष्ट उच्चारक** 299.28  
 कुदूरय 282.21  
 कुलिखित 412.48  
 संदिग्धाधी 426.34  
**अस्पष्ट अर्थ**  
 संदिग्ध अर्थ 426.15  
**अस्पष्ट उच्चारक**  
**अस्पष्ट उच्चारक** 299.28 ⇨  
**अस्पष्ट उच्चारण**  
 अशुद्ध उच्चारण 411.5  
**अस्पष्ट उच्चारण** 299.10 ⇨  
**अस्पष्ट उच्चारण करना**  
**अस्पष्ट उच्चारण करना** 299.19 ⇨  
**अस्पष्टता:**  
**अस्पष्टता:** 823.15 ⇨  
**अस्पष्टता**  
**अस्पष्टता** 823.1 ⇨  
 कुदूरयता 282.11  
 घुंघलका 286.4  
**अस्पष्टता इटना**  
 स्पष्ट होना 822.13  
**अस्पष्ट रंग**  
 अप्रस्फुटित रंग 289.28  
**अस्पष्ट रहना**  
**अस्पष्ट होना** 823.9  
**अस्पष्ट लिखित**  
 कुलिखित 412.48  
**अस्पष्ट लेख**  
 कुलेख 412.12  
**अस्पष्ट होना**  
**अस्पष्ट होना** 823.9 ⇨  
**अस्पूरय**  
**अस्पूरय** 731.34 ⇨  
 संक्रामक 169.14  
**अस्पूरयता**  
**अस्पूरयता** 731.11 ⇨  
**अस्पूय**  
 अमुक्त 364.9  
 अस्पर्शित 269.18  
**अस्पूह**  
**इच्छाहीन** 360.9  
 लोभहीन 360.15  
**अस्पूहा**  
**इच्छाहीनता** 360.1  
**अस्पूट**  
 अनभिव्यक्त 429.19  
**अस्पूट** 823.11  
 रक्षित (रहस्य) 823.14  
**अस्पूटता**  
**अस्पूटता** 823.1  
**अस्पूट चक्र**  
 फुसफुसाहट 299.14  
**अस्पूत**  
**स्फूर्तिहीन** 492.14  
**अस्पूत**  
 अपारंपरिक 795.14

**विस्मृत** 357.12  
**अस्पूतता**  
 अपारंपरिकता 795.3  
**अस्मितता**  
 अहं तत्त्व 351.3  
 वैयक्तिकता 689.2  
 व्यक्तित्व 836.1  
**अस्मितता क्लेश**  
 पंच क्लेश सूची 761.17  
**अस्मितहीन**  
 व्यक्तित्वहीन 836.8  
**अस्मितहीनता**  
 व्यक्तित्वहीनता 836.2  
**अस्मितीय**  
 वैयक्तिक 689.3  
**अस्मृत**  
**अस्मृत** 357.9 ⇨  
**अस्मृति**  
**अस्मृति** 357.1 ⇨  
**अस्म**  
 दिनः चौथा पहर 49.6  
 रुधिर 131.1  
**अस्मजः**  
 मांस 132.1  
**अस्मज**  
 पिशाच 786.8  
**अस्मष्टा**  
 अरघेता 528.7  
**अस्सतन**  
 सत्यत 820.25  
**अस्स भै**  
 सत्यतः 820.25  
**अस्सा**  
 हास्त्रागार 929.3  
**अस्स**  
 पर (संपत्ति) 624.17  
**अस्सहीय**  
 पर (संपत्ति) 624.17  
**अस्सबालन**  
 मानव बालन 1046.3  
**अस्सबालित**  
 मानव बालित 1046.28  
**अस्सच्छ**  
 मलिन 217.6  
**अस्सच्छता**  
 प्रदूषण 217.3  
 मलिनता 217.1  
**अस्सत्तत्र**  
 पराधीन 901.8  
**अस्सत्तःकृतता:**  
**अस्सत्तःकृतता:** 505.37 ⇨  
**अस्सत्ता**  
 सामूहिकता 890.2  
**अस्समित**  
 अध्वनित 295.5  
**अस्सव्य**  
 देवता 772.1

## अस्वभावज

**अस्वभावज**  
 अस्वभाविक 836.12  
**अस्वभावजस्त**  
 अस्वभाविकता 836 6  
**अस्वर**  
 व्यजन अक्षर 410 7  
**अस्वर जन**  
 अजपा जप 749 5  
**अस्वरज**  
 अनमिव्यक्ति 429 1  
**अस्वरित**  
 अकथित 429 20  
 अध्यनित 295 5  
 अनमिव्यक्त 429 19  
**अस्वस्थ**  
 रोगग्रस्त 162 5  
**अस्वस्थता**  
 रोग 163 1  
 रोगग्रस्तता 162 1  
**अस्वस्थ होना**  
 रोगग्रस्त होना 162.4  
**अस्यस्य**  
 पर (सपति) 624 17  
**अस्याद**  
 स्वादहीन 275 16  
**अस्यादिष्ट**  
 अस्यादिष्ट 275 21 ⇨  
**अस्वाधीन**  
 पराधीन 901 8  
**अस्वाभायिक**  
 अस्वाभायिक 836.12 ⇨  
**अस्वाभायिकता**  
 अस्वाभाविकता 836 6 ⇨  
**अस्वामिमान**  
 अस्वामिमान 859.2 ⇨  
**अस्वामिमानी**  
 अस्वामिमानी 859.7 ⇨  
**अस्यामी**  
 स्वामीहीन 621 25  
**अस्वार्थ**  
 तटस्थ 887 11  
**अस्वार्थी**  
 स्वार्थहीन 712 18  
**अस्वास्थ्यकर**  
 संक्रामक 169 14  
**अस्वास्थ्यकारक**  
 स्वास्थ्यहर 162 6  
**अस्वीकर्ता**  
 अपराध अस्वीकर्ता 876 29  
**अस्वीकार**  
 अपराध अस्वीकृति 876 10  
 अस्वीकृति 338 1  
 मुकरन 338 10  
**अस्वीकार करना**  
 अनुमति न देना 338.19  
 अस्वीकार करना 338.18 ⇨  
**अस्वीकारात्मक**  
 अस्वीकारात्मक 338 32 ⇨

**अस्वीकृत**  
 अनादत्त 839.22  
 अनुमति अदत्त 338.35  
 अपारित 329 28  
 अस्वीकृत 338.33 ⇨  
**अस्वीकृति**  
 अननुमति 338 3  
 अपराध अस्वीकृति 876.10  
 अस्वीकृति 338.1 ⇨  
**अस्वीकृति: उक्ति सूची)**  
 अस्वीकृति: उक्ति सूची) 338.50 ⇨  
**अस्वीकृति विह्वन**  
 अस्वीकृति विह्वन 407 5 ⇨  
**अस्वेच्छित कर्म**  
 अस्वेच्छित कर्म 650.8 ⇨  
**अस्वेच्छित कर्म करना**  
 अस्वेच्छित कर्म करना 650.15 ⇨  
**अस्तरे नी**  
 नवत 532 24  
**अस्सी**  
 अस्सी 948 68 ⇨  
**अहं**  
 अहं तत्त्व 351 3  
 मैं 316 20  
**अहंकार**  
 अधर्म गुण सूची 773 34  
 अहं तत्त्व 351 3  
 दर्प 858 5  
 श्रेष्ठ ग्रंथि 352.7  
**अहंकार करना**  
 दर्प करना 858 9  
**अहंकार टूटना**  
 अभिमान मर्दित होना 911 7  
**अहंकारपूर्णता**  
 उन्नतमस्तकता 858.4  
**अहंकार भंग**  
 अभिमान भंग 911 3  
**अहंकार भंग होना**  
 अभिमान मर्दित होना 911.7  
**अहंकारहीन**  
 दर्पहीन 859 8  
**अहंकारहीनता**  
 दर्पहीनता 859.3  
**अहंकारी**  
 दर्पी 858.13  
**अहंकारोक्ति**  
 गर्वोक्ति 842 2  
**अहं तत्त्व**  
 अहं तत्त्व 351.3 ⇨  
**अहंतव्य**  
 अहंतव्य 250.19 ⇨  
**अहंपुर्विका**  
 प्रतियोगिता 707.2  
**अहं ब्रह्मास्मि**  
 अनलहक 741 29  
 अहं ब्रह्मास्मि 741.25 ⇨  
**अहंभद्रता**  
 श्रेष्ठ ग्रंथि 352 7

**अहं कवच**  
 श्रेष्ठ ग्रंथि 352.7  
**अहंवाद**  
 डींग 842.4  
**अहंवादी**  
 डींगबाज 842 15  
**अह**  
 अहोरात्र 46 10  
 दिन 47 1  
**अहत्या**  
 अहत्या 250.3 ⇨  
**अहद**  
 प्रतिज्ञा 339 17  
 विवाह 799 1  
 संकल्प 500 1  
**अहदनामा**  
 अनुबंध पत्र 339 2  
 शपथ पत्र 339 21  
**अहदी**  
 अफ्रीमधी 212.12  
 आलसी 490 14  
**अहदी फ़ौज**  
 रिजर्व सेना 932 4  
**अहनिशि**  
 अहोरात्र 46 10  
**अहबाब**  
 मित्र मडली 705.4  
**अहम**  
 महत्त्वपूर्ण 852 8  
**अहमक**  
 मंदघी 302 8  
 मूर्ख 302 7  
**अहमकपना**  
 मूर्खता 302.1  
**अहम्**  
 मैं 316 20  
**अहम्पति**  
 दर्प 858.5  
**अहम्पन्य**  
 दर्पी 858 13  
**अहम्पन्यता**  
 दर्प 858.5  
 श्रेष्ठ ग्रंथि 352.7  
**अहरा**  
 अलाय 109.3  
 अस्थायी वास 618 10  
 जलावन 110 4  
 सूखा गोबर 110.13  
**अहरी**  
 प्याऊ 207 11  
 होज 18.14  
**अहनिश**  
 अहोरात्र 46 10  
**अहर्नाशि**  
 सूर्य 8.1  
**अहलि**  
 परती 552.6

**अहलित**  
 असमाधानित 335.11  
 अहलित 548.49 ⇨  
**अहल्या**  
 अहल्या 770.17 ⇨  
 त्र्यधि स्त्री सूची 789.25  
 पद्यकन्या सूची 774.18  
 परती 552.6  
**अहवाल**  
 वृत्तांत 449 14  
**अहसान करामोना**  
 कृतघ्न 833 11  
**अहसान करामोरी**  
 कृतघ्नता 833.4  
**अहसानमंद**  
 कृतज्ञ 833 8  
**अहसानमंदी**  
 कृतज्ञता 833 1  
**अहसास**  
 अनुभूति 263.1  
 घेतना 263.4  
**अहाता**  
 अहाता 604.3 ⇨  
 महल्ला 619 6  
**अहाता दीवार**  
 परकोटा 604.11  
**अहातायंदी**  
 परिसीमन 1001 9  
**अहाता बाज़ार**  
 अहाता बाज़ार 663.2 ⇨  
**अहाते में लेना**  
 घेरना 604 22  
**अहारना**  
 रंदा करना 542 9  
**अहाहा**  
 आनंद ध्वनि सूची 382.25  
**अहिसक**  
 अहिसक 250.20 ⇨  
 निराभिष 204 4  
**अहिसक आंदोलन**  
 अहिसा आंदोलन 904.4  
**अहिसक क्रांति**  
 अहिसक क्रांति 903.12 ⇨  
**अहिसकता**  
 निराभिषता 204.1  
**अहिसा**  
 अहिसा 774.10 ⇨  
 अहिसा 250.4 ⇨  
 पंचशील सूची 737.12  
**अहिसा आंदोलन**  
 अहिसा आंदोलन 904.4 ⇨  
**अहिसावाद**  
 अहिसा 250.4  
 गांधीवाद 884.21  
**अहिसावादी**  
 अहिसक 250.20  
**अहिस्र**  
 अहिसक 250 20



**अहि**  
 छली 827 24  
 नाभि 148 3  
 बटमार 864 34  
 राहु 6 4  
 सर्प 123 10  
 सीसा 94 14  
**अहिक (जैसे: दशाहिक)**  
 दैनिक 71 14  
**अहिकांत**  
 वायु 85 1  
**अहि चर्म**  
 सर्प चर्म 582.10  
**अहिच्छत्रक**  
 कुकुरमुत्ता 189 13  
**अहिलित**  
 कृष्ण 771 1  
**अहित**  
 अकल्याण 711 1  
 अपकार 831 4  
 अहित 712.2 ⇨  
 हानि 646 7  
**अहित कामी**  
 अकल्याण कामी 711 11  
**अहितकारी**  
 अपकारक 831 15  
 अहितकारी 712 15 ⇨  
**अहितकृत**  
 अपकृत 831 13  
**अहित चैतावनी**  
 धमकी 373 12  
**अहितु**  
 अकल्याण कामी 711 11  
**अहिपति**  
 वासुकि नाग 778 21  
**अहिफेन**  
 अफीम 212.2  
**अहिभोजी**  
 गरुड 777.15  
**अहिमान**  
 बक कीत हर टिकने का रत्न 559 17  
**अहिमाली**  
 शिव 767.1  
**अहियान**  
 शेषशायी विष्णु 768.16  
**अहिरमन**  
 अहिर्मन 785.3  
**अहिरावण**  
 राक्षस सूची 784.4  
**अहिरिपु**  
 गरुड 777 15  
 नेवला 127.69  
 मोर 126.68  
**अहिर्बुध्न**  
 आकारा गंगा 1.14  
**अहिर्बुध्न्य**  
 रुद्र सूची 767.36

**अहिर्मन**  
 अहिर्मन 785 3 ⇨  
**अहिलोचन**  
 शिव. सर्प 767.9  
**अहिवाल**  
 सुहाग 803 11  
**अहिवाली**  
 सुहागन 803 13  
**अहीर**  
 गोप 771.31  
**अहीरणि**  
 दोमुंहा सौंप 123 12  
**अहीरनी**  
 गोपी 771 32  
**अहीर शैरव**  
 राग रागिनी सूची 457 24  
**अहीरा**  
 बलराम 771 74  
 लक्ष्मण 770 49  
 वासुकि नाग 778 21  
 शेषनाग 778 22  
**अहुत**  
 ध्यानयोग 756 9  
 स्तोत्र 741 16  
**अहुर**  
 असुर 783 6  
 पाषण शक्ति 178 2  
**अहुर्मज्ज**  
 अहुर्मज्ज 764.13 ⇨  
**अहुठन**  
 कुटाई ठीहा 596 13  
**अहुदय**  
 कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8  
 निर्दय 835 10  
**अहुभीक**  
 अस्थिरचित्त 355 7  
**अहेतु**  
 कारणहीनतः 507 8  
**अहेतुक**  
 कारणहीनतः 507.8  
**अहेरी**  
 आखेटक 252.2  
**अहो**  
 शाबारी: उद्गार सूची 841 40  
**अहोई**  
 अहोई 774.11 ⇨  
 अहोई पूजा 57.1  
**अहोई आठ**  
 अहोई पूजा 57.1  
**अहोई पूजा**  
 अहोई पूजा 57.1 ⇨  
**अहोबिल**  
 नृसिंह अवतार 769.20  
 नृसिंह: नी रूप सूची 769 21  
**अहोम**  
 असम 28.11  
**अहोरात्र**  
 अहोरात्र 46.10 ⇨

आवर्तन काल 5.2  
 पूरे दिन 1049.21  
**अहोरात्र: 1/24**  
 घटा 50 8  
**अहोरात्र: 1/30**  
 मुहूर्त 49 10  
**अहोरात्र: 1/8**  
 पहर 49 1  
**अहोरात्र: दो भाग**  
 अहोरात्र दो भाग 46.16 ⇨  
**अहोरात्र: सूर्यभिमुख काल**  
 रात 48 1  
**अहोरात्र: सूर्याभिमुख भाग**  
 दिन 47 1  
**अहोरात्रीय**  
 दैनिक 71 14  
**अहोरा बहोरा**  
 अहोरा बहोरा 800.3 ⇨  
 पुनः 73 5  
**अहोरूपमहो ध्वनि**  
 परस्पर प्रशंसा 841.2  
**अ-होयन**  
 अघटन 75 3  
**अहदनामा**  
 शपथ पत्र 339 21  
**अहदशिकनी**  
 प्रतिज्ञा भंग 338.17  
**अहन**  
 अहोरात्र 46 10  
**अहस्त**  
 अनष्ट 533.16  
**अहिमन**  
 अहिर्मन 785 3  
**अहिमान**  
 अहिर्मन 785 3  
**अहीक**  
 बौद्ध भिक्षु 790 27  
**अहल**  
 सुपात्र 303.15  
 स्वजन 725.1  
**अहलकार**  
 कर्मचारी 652.27  
 न्याय कर्मी 874 14  
**अहलकारी**  
 कर्मचारिता 652 26

**आ**

संख्या 948 1  
 संख्या अंक 948.3  
**आँकड़ा संख्या**  
 आँकड़ा संख्या 949.1 ⇨  
**आँकड़े**  
 आँकड़ा संख्या 949 1  
**आँकना**  
 आकलन करना 947 17  
 चिह्न करना 407 21  
 मूल्यांकन करना 664 19  
**आँकिक**  
 टैलर 630 14  
 सांख्यिकी विद 953.11  
**आँकड़ा**  
 तंबू. चूँटा 600.25  
**आँकड़ा लगी**  
 लग्गा 563.6  
**आँकुरी**  
 अंकुरा 555 20  
**आँकू**  
 आकलन कर्ता 947.22  
**आँख**  
 अंकुरण बिंदु 117.2  
 इन्द्रिय सूची 268.2  
 छिद्र 271.6  
 जाल रंग 572 19  
 दया दृष्टि 834.3  
 दृष्टि 282 1  
 दो उपमान सूची 948.20  
 नेत्र 141 1  
 नेत्र पुतली 141.5  
 लक्ष्य केंद्र 931.7  
 विचार कोण 330.2  
 विधेक 301 7  
 सूई नाका 562.24  
**आँख: 2**  
 शरीर. नी रंग सूची 138.3  
**आँख उठा कर न देखना**  
 उपेक्षा करना 185 5  
 लज्जा प्रदर्शन करना 845.7  
**आँख उठाना**  
 विद्रोह करना 903.14  
**आँख उलट जाना**  
 दर्प करना 858.9  
**आँख कैची न होना**  
 लज्जित होना 845.6  
**आँख का अंघा**  
 मूर्ध 302.7  
**आँख का कौटा**  
 शत्रु 706.2  
**आँख का तारा**  
 पुत्र 718.3  
 प्रिय पुत्र 718.7  
**आँख-कान: बीच का भाग**  
 कनपटी 140.14  
**आँख का परदा उठाना**  
 ज्ञान दूर होना 340.11.

## आँख का पानी

**आँख का पानी**  
लज्जा 845.1

**आँख का पानी ढल जाना**  
लज्जाहीन होना 846.4

**आँख की किरकिरी**  
शत्रु 706.2

**आँख: कीचड़**  
नेत्र मल 215.9

**आँख के सामने**  
प्रत्यक्षतः 284.55

**आँख: कोर**  
नेत्र कोर 141.4

**आँख खुलना**  
जागना 265.5  
धम दूर होना 340.11

**आँख गकाना**  
ताकना 284.41

**आँख गड़गड़**  
नेत्र कोटर 141.3

**आँख गीली होना**  
आँसू आना 387.4

**आँख: गोलक**  
नेत्र पुतली 141.5

**आँख घमकाना**  
चितवन चंचल करना 284.35

**आँख चलाई**  
नेत्र मुद्रा 464.32

**आँख चलाना**  
चितवन चंचल करना 284.35

**आँख चुरा कर**  
गुप्ततः 824.29

**आँख चुराना**  
गुप्ततः करना 824.15

**आँख छलछलाना**  
आँसू आना 387.4

**आँख जमना**  
लालसा होना 359.13

**आँख झंपना**  
लज्जित होना 845.6

**आँख झपकते**  
शीघ्रतः 496.13

**आँख झपकना**  
सोना 266.11

**आँख टँगना**  
टकटकी बंधना 284.40

**आँख उबड़बुाना**  
आँसू आना 387.4

**आँख डालना**  
दृष्टिपात करना 284.42

**आँखड़ी**  
नेत्र 141.1

**आँख: डेला**  
नेत्र पुतली 141.5

**आँख दिखाना**  
धमकाना 373.26

**आँख न जमना**  
चकार्थीय होना 287.29

**आँख नम होना**  
आँसू आना 387.4

**आँख नाक**  
मुख मडल 140.11

**आँख निकालना**  
धमकाना 373.26

**आँख नीची करना**  
लज्जित होना 845.6

**आँख पट्टी**  
आँख पट्टी 555.25 ⇨

**आँख पड़ना**  
दृश्य होना 282.15

**आँख लालसा होना** 359.13

**आँख पथराना**  
मरना 249.18

**आँख: परदा**  
रेटिना 141.9

**आँख: फड़कन**  
नेत्र स्फुरण 1039.8

**आँख फूटना**  
ईर्ष्या होना 709.3

**आँख बधा कर**  
गुप्ततः 824.29

**आँख बधाना**  
गुप्ततः करना 824.15  
लज्जा प्रदर्शन करना 845.7

**आँख बदलना**  
निष्ठा बदलना 827.10

**आँख बिछाए होना**  
आतुर प्रतीक्षा करना 1057.6

**आँख बिछाना**  
आतुर प्रतीक्षा करना 1057.6

**आँख भर आना**  
आँसू आना 387.4

**आँख मचकाना**  
चितवन चंचल करना 284.35

**आँख मटकाना**  
चितवन चंचल करना 284.35

**आँख मारना**  
आँख मारना 284.37 ⇨

**आँख मारना: कर्म**  
आँख मारना. कर्म 284.7 ⇨

**आँख मारने वाला**  
आँख मारने वाला 284.8 ⇨

**आँख मिचीनी**  
आँख मिचीनी 476.2 ⇨

**आँख मिचीली**  
आँख मिचीनी 476.2

**आँख मीच कर पीछे चलना**  
अंधानुगमन करना 345.6

**आँख मुँदना**  
मरना 249.18

**आँख मुँद कर लूटना**  
आँख मुँद कर लूटना 864.48 ⇨

**आँख मुँदनी**  
आँख मिचीनी 476.2

**आँख में खटकना**  
अप्रिय होना 370.3

**आँख में चुभना**  
अप्रिय होना 370.3

**आँख में बसना**  
प्रिय होना 369.6

**आँख: मेल**  
नेत्र मल 215.9

**आँख रखना**  
उपेक्षा न करना 184.5

**आँख साल पीली करना**  
क्रुद्ध होना 373.15

**आँख धमकाना** 373.26

**आँख बाला**  
दृष्टियुक्त 282.18

**आँख संकेत**  
नेत्र मुद्रा 464.32

**आँखें चार करना**  
प्रेम करना 368.13

**आँखें चार होना**  
प्रेम होना 368.12

**आँखें तारेना**  
क्रुद्ध होना 373.15

**आँखें निकालना**  
क्रुद्ध होना 373.15

**आँखें फेर लेना**  
अवसरवादी होना 827.12

**आँखें मिलना**  
प्रेम होना 368.12

**आँखें मूँद लेना**  
अनदेखा करना 284.32

**आँखों का तारा**  
लाजा [लाञ्छी] 721.15

**आँखों देखते**  
दृश्यतः 282.25

**आँखों देखते**  
शीघ्रतः 496.13

**समक्षतः** 1021.11

**आँखों देखना**  
प्रत्यक्ष देखना 284.34

**आँखों देखा [आँखों देखी]**  
प्रत्यक्ष दृष्ट 284.50

**आँखों देखी**  
प्रत्यक्ष साक्ष्य 876.17

**आँखों में धूल झाँकना**  
छल करना 827.14

**आँखों में रखना**  
अत्यधिक लाड़ करना 721.10

**आँखों में समाना**  
प्रिय होना 369.6

**आँखों से**  
प्रत्यक्षतः 284.55

**आँखों से दूर होना**  
समक्ष न रहना 1022.4

**आंग**  
अंगीय 139.15

**आँगन**  
आँगन 604.4 ⇨

**गृह** 801.1

**भीतर वाला आँगन** 604.6

**आँगन बाड़ी**  
किचन गार्डन 551.11

**आँगनबाड़ी**  
गृह उपवन 12.15

**आंगविद्य**  
अंगविद्य 261.45

**आंगिक**  
अंगीय 139.15  
अप्रधान 853.9

**आंगिरस**  
बृहस्पति 789.22

**आँच**  
अंगारा 106.12  
अग्नि 108.1  
अग्नि ज्वाला 106.8  
अहित 712.2  
आहति 168.1  
उष्णता 104.1  
संकट 909.1  
हानि 646.7

**आँचल**  
चूँघट 591.3  
पलाय 586.24  
भिक्षा झोली 642.10

**आँचल**  
स्त्री स्तन 146.7

**आँचल: गीठ**  
उब 672.7

**आँचल: छोर**  
पलाय छोर 586.25

**आँचल फैलाना**  
भिक्षा माँगना 642.15

**आँचल में छिपना**  
शरण लेना 910.7

**आँचलिक**  
क्षेत्र स्तरीय 35.2  
क्षेत्रीय 34.14

**आँचलिकता**  
आँचलिक प्रवृत्ति 453.14  
क्षेत्र स्तरीयता 35.1

**आँचलिक प्रवृत्ति**  
आँचलिक प्रवृत्ति 453.14 ⇨

**आँचन**  
अस्थि शल्य 174.8

**आँजनेय**  
हनुमान 781.19

**आँट**  
अँगुठा-तर्जनी: मध्य स्थान 33.7  
ईर्ष्या 709.1  
गठरी 674.2  
दोब 481.17  
पूला 686.19  
प्रसिद्धिदाता 707.1

**आँटसौट**  
पदचक्र 827.8

**आँटी**  
अंटी 575.3  
टैट 672.6

पूला 686.19  
लच्छी 575.7  
औडी  
गुठली 112.3  
धक्का 938.24  
नबोका: स्तन 146.8  
औड  
अंडकोश 152.11  
औड  
हिरण्य गर्भ 764.32  
औडज  
अंडज 243.14  
औसू  
अनंदाकर्षित 238.14  
औत  
आंत्र 152.2  
ताँत 569.5  
औतर  
आंतरिक 999.12  
औतर  
क्यारी: मध्यस्थ मार्ग 551.17  
औतरिक  
आंतरिक 999.12 ⇨  
गुत् 824.20  
घनिष्ठ 704.27  
नितलीय 985.17  
प्रेरणाजन्य 499.7  
मर्मस्थ 999.14  
मानसिक 351.8  
स्वाभाविक 836.11  
औतरिक अनुभूति  
भाव 358.1  
औतरिक अर्थ  
अंतर्निहित अर्थ 426.8  
औतरिक अशांति  
धिता 377.2  
औतरिक आकाश  
वायु मंडल 2.6  
औतरिक इन्द्रिय  
अंतरिन्द्रिय 288.4  
औतरिक गुण  
स्वभाव 836.4  
औतरिक वेतना  
अंतरात्मा: आदेश 351.5  
औतरिक जगत  
मनोजगत 351.1  
औतरिक ज्ञान  
आंतरिक ज्ञान 305.4 ⇨  
औतरिकता  
मनत: 351.9  
औतरिक तथ्य  
मूल तथ्य 820.16  
औतरिकतन  
आंतरिकतन 999.13 ⇨  
औतरिकता  
आंतरिकता 999.2 ⇨  
नितलीयता 985.8  
स्वाभाविकता 836.5

आंतरिकता बाह्यता  
आंतरिकता बाह्यता 999.1 ⇨  
आंतरिक बुद्ध  
मनोव्यथा 391.7  
आंतरिक ध्वनि  
योग ध्वनि 756.16  
आंतरिक प्रेरणा  
अंतरात्मा: आदेश 351.5  
आंतरिक बाह्य  
आंतरिक बाह्य 999.11 ⇨  
आंतरिक भाग  
अंतर्भाग 999.4  
आंतरिक युद्ध  
गृहयुद्ध 905.16  
आंतरिक रूप  
आंतरिक रूप 967.7 ⇨  
आंतरिक व्याप्त  
अंतर्व्याप्त 972.13  
आंतरिक शक्ति  
ऊर्जा 101.1  
मनोबल 394.4  
आंतरिक स्थान  
अभ्यंतर 985.13  
आंतरिक स्थान 33.5 ⇨  
आंतरिक स्वत्व  
इड 352.4  
आंतरिक  
अंतरिक गामी 1081.54  
अंतरिकीय 2.8  
आंतिक  
पञ्चोस 31.3  
औतें ऐंठना  
बहुत भूखा होना 180.9  
औतें कुलबुलाना  
बहुत भूखा होना 180.9  
आंत्र  
आंत्र 152.2 ⇨  
आंत्रीय 152.17  
आंत्रप्रवेश (फ़ाँ)  
उद्योगपति 557.5  
आंत्र बुद्धि  
हर्निया 163.31  
आंत्रीय  
आंत्रीय 152.17 ⇨  
आंदोल  
झूला 1034.3  
रस्ती झूला 1034.5  
आंदोलक  
संचल कर्ता 1037.21  
आंदोलन  
आंदोलन 902.8 ⇨  
कंपन 1039.11  
झूलन 1034.1  
तरंगण 1040.15  
संचलन 1037.4  
आंदोलन उठाना  
आंदोलन करना 902.22

आंदोलन करना  
आंदोलन करना 902.22 ⇨  
आंदोलन कर्ता  
आंदोलन कर्ता 902.30 ⇨  
आंदोलन: नारा  
आंदोलन: नारा 902.9 ⇨  
आंदोलन विषयक  
आंदोलन विषयक 902.29 ⇨  
आंदोलनहीनता  
निरचलता 1038.2  
आंदोलन होना  
तरंगित होना 1040.29  
आंदोलनीय  
आंदोलन विषयक 902.29  
आंदोलित  
उद्दिग्ण 377.13  
कंपित 1039.20  
संचलित 1037.20  
आंदोलितता  
उद्दिग्णता 377.4  
तरंगितता 1040.16  
औधी  
औधी 85.5 ⇨  
क्रांति विस्फोट 903.8  
प्रबल आक्रमण 914.7  
औधी की तरह चलना  
तेज़ दौड़ना 484.14  
औधी धूल  
औधी धूल 85.6 ⇨  
औधी पानी  
औधी पानी 85.7 ⇨  
औधी बरसात  
औधी पानी 85.7  
आंध्र  
आंध्र प्रदेश 28.13  
आंध्र प्रदेश  
आंध्र प्रदेश 28.13 ⇨  
आंध्र प्रदेश: राजधानी  
आंध्र प्रदेश राजधानी 28.14 ⇨  
आंब  
आम 190.8  
आंबिकेय  
गणेश 773.22  
धृतराष्ट्र 771.65  
स्कंद 773.50  
औबी  
कच्चा आम 190.9  
औय बीय  
बकवास 428.7  
औय बीय शौय  
बकवास 428.7  
औब  
अतिसार 216.14  
औबठ  
औबठ 1000.11 ⇨  
किनारा 1000.10  
बरतन: मुँह 680.22

औबठ गरारी  
गरारी 1077.37  
औयन  
अक्षाय कील 1077.14  
औवल  
जरायु 152.15  
औयला  
औयला 189.6 ⇨  
साग सब्जी सूची 189.4  
औयौ  
अग्नि पात्र 109.1  
आंशिक  
अपूर्ण रचित 528.8  
अल्प 942.13  
आंशिक 939.11 ⇨  
आंशिकतः  
आंशिकतः 939.20 ⇨  
आंशिकता  
अंशता 939.1  
आंशिक रूप से  
आंशिकतः 939.20  
आंशिक विवाह विच्छेद  
दांपत्य विच्छेद 804.6  
आंसर (अँ)  
उत्तर 334.1  
औसू  
अशु 387.1  
औसू आना  
औसू आना 387.4 ⇨  
औसू बहना 387.5  
औसू गैस  
औसू गैस 86.2 ⇨  
औसू घूना  
औसू बहना 387.5  
औसू टपकना  
औसू बहना 387.5  
औसू टपकाना  
औसू बहाना 387.6  
औसू निकलना  
औसू बहना 387.5  
औसू बहना  
औसू बहना 387.5 ⇨  
औसू बहाना  
औसू बहाना 387.6 ⇨  
रोना 386.16  
औसू धरा [औसू धरी]  
अशुपूर्ण 387.7  
औडो  
नहीं 338.51  
आ-  
पर्यंत 39.12  
आइंदा  
अनिकट भविष्य में 36.36  
भविष्य काल 36.14  
आइंस्टीनी  
दिककालीन 964.26  
आइंस्टीनी स्पेस  
दिककाल 964.16

## आइज़ोल

**आइज़ोल**  
मिज़ोरम राजधानी 28 61  
**आइटनपेरी (ऑ)**  
यात्रा कार्यक्रम 1087 13  
**आइडेंटिटी कार्ड (ऑ)**  
परिचय पत्र 704 4  
**आइडेंटिफिकेशन (ऑ)**  
साधारणीकरण 352 14  
**आइना**  
दर्पण 283 13  
**आइल**  
मध्य वीथिका 1063 52  
**आइल पेंट (ऑ)**  
तेल रंग 290 6  
**आइलैंड (ऑ)**  
अगला डेक 1073 28  
**आइवरी (ऑ)**  
हाथीदंत 96 30  
**आइस (ऑ)**  
आइसक्रीम 203 48  
बरफ़ 90 2  
**आइसक्रीम**  
आइसक्रीम 203 48 ⇨  
**आइसक्रीम (ऑ)**  
आइसक्रीम 203 48  
**आइस ट्रे**  
आइस ट्रे 671.13 ⇨  
**आइस ट्रे (ऑ)**  
आइस ट्रे 671 13  
**आइसबर्ग (ऑ)**  
समताप रेखा 51 12  
**आइस क्रिकेटी (ऑ)**  
बर्फ़खाना 105 12  
**आइस बकट**  
आइस बकट 671.14 ⇨  
**आइस बकट (ऑ)**  
आइस बकट 671 14  
**आइसबर्ग (ऑ)**  
प्लावी हिम शैल 90.7  
**आइसबार (ऑ)**  
समदाब रेखा 51.11  
**आइसबोट**  
आइसबोट 1072.15 ⇨  
**आइसबोट (ऑ)**  
आइसबोट 1072 15  
**आइस बीक्स**  
आइस बीक्स 671.15 ⇨  
**आइस बीक्स (ऑ)**  
आइस बीक्स 671 15  
**आइस स्केट (ऑ)**  
बर्फ़ स्केट 588.38  
**आइस स्केटिंग**  
आइस स्केटिंग 477.19 ⇨  
**आइस स्केटिंग (ऑ)**  
आइस स्केटिंग 477.19  
**आइसोटोन**  
आइसोटोन 78.20 ⇨

**आइसोटोन (ऑ)**  
आइसोटोन 78 20  
**आइस्ड (ऑ)**  
हिमित 105 23  
**आई**  
माता 717 7  
**आई (बोलचाल)**  
मृत्यु 249.1  
**आईएसआई मार्क (ऑ)**  
गुणवत्ता मार्क 621 18  
**आईओयू (ऑ)**  
ऋण पत्र सूची 633 15  
**आईटी (ऑ)**  
सूचना तकनीक 441.3  
**आईन**  
संविधान 878 16  
**आईनादार**  
क्षीर कर्मी 224 2  
**आईनी**  
संविधान सम्मत 878 29  
**आई विटनेस (ऑ)**  
प्रत्यक्ष साक्षी 876 18  
**आउंस (ऑ)**  
औंस 962 29  
**आउट**  
आउट 475 26 ⇨  
**आउट (ऑ)**  
आउट 475 26  
निर्गम मार्ग 1092 3  
निर्गम सकेत सूची 1092 20  
**आउटपोस्ट (ऑ)**  
अग्र चौकी 933 10  
**आउटफ्रिट (ऑ)**  
वेश 589 1  
**आउटरीडिंग (ऑ)**  
बहिः प्रजनन 243.5  
**आउटलाइन (ऑ)**  
आकार चित्र 404.11  
परिकल्पना 520 5  
बाह्य रेखा 968 11  
**आउट हाउस (ऑ)**  
उपभवन 602.10  
**आउटिंग (ऑ)**  
पिकनिक 1085.8  
**आएगा [आएगी]**  
होगा 67.4  
**आए दिन**  
प्रति दिन 1049 20  
**आकषित**  
कषित 1039.20  
भय कषित 395.20  
**आक छी**  
छीक 183 15  
**आक धू**  
धूत्कार 855.4  
**आकषत**  
परलोक 258.12

**आकर**  
अधिक 944 5  
खान 92 14  
गृह 601 1  
ढेर 686 6  
भंडार 670 3  
भवन 602 7  
संग्रहालय 669 8  
सदर्थ पुस्तक 446 20  
**आकर ग्रंथ**  
सदर्थ पुस्तक 446 20  
**आकर ज्ञान**  
चीसठ कला सूची 397 4  
**आकरिक**  
खनिक 92 18  
**आकरी**  
खनि कर्म 92 17  
**आकरीय**  
राशि विषयक 686.21  
**आकर्षण**  
श्रवण 293 2  
**आकर्षित**  
श्रुत 293 13  
**आकर्षक**  
आकर्षक 1050 29 ⇨  
रोचक 400 12  
सम्मोहनपूर्ण 367 7  
सुंदर 157 7  
**आकर्षकता**  
रोचकता 400 4  
सुंदरता 157 1  
**आकर्षक स्थल**  
पर्यटन स्थल 1090 8  
**आकर्षण**  
आकर्षण 1050.10 ⇨  
आसक्ति 365.1  
चुंबकता 1050.7  
लोभ 359.6  
सम्मोहकता 367 3  
सम्मोहन 367.2  
सुंदरता 157 1  
**आकर्षण क्रीडा**  
चीसठ कला सूची 397.4  
**आकर्षण विकर्षण**  
आरा गति 1035.2  
**आकर्षण शक्ति**  
चुंबकीय बल 1050.6  
**आकर्षण स्थल**  
पर्यटन स्थल 1090.8  
**आकर्षणहीन**  
अरोचक 401.10  
असुंदर 156 3  
**आकर्षणहीनता**  
अरोचकता 401.1  
असुंदरता 156.1  
**आकर्षित**  
आकर्षित 1050.28 ⇨  
लुब्ध 359.30

सम्मोहित 367.6  
**आकर्षित करना**  
आकर्षित करना 1050.24 ⇨  
**आकर्षितता**  
खूबत 353 11  
**आकर्षित होना**  
आकर्षित होना 1050.23 ⇨  
**आकर्षी**  
आकर्षक 1050 29  
**आकलक**  
आकलन कर्ता 947 22  
**आकलन**  
अनुसंधान 307 4  
आकलन 947.5 ⇨  
आकलन कर्म 947 6  
गणना कर्म 950 11  
मूल्यांकन 664 4  
**आकलन करना**  
आकलन करना 947 17 ⇨  
**आकलन कर्ता**  
आकलन कर्ता 947.22 ⇨  
**आकलन कर्म**  
आकलन कर्म 947 6 ⇨  
**आकलित**  
आकलित 947 21 ⇨  
गिना [गिनी] 950 12  
संग्रहित 669 19  
**आकष**  
कसीटी पत्थर 566 9  
**आकस्मिक**  
आकस्मिक 69 10 ⇨  
**आकस्मिक अवकाश**  
आकस्मिक अवकाश 494.10 ⇨  
**आकस्मिक घटना**  
अप्रत्याशित घटना 75 6  
**आकस्मिक छुट्टी**  
आकस्मिक अवकाश 494 10  
**आकस्मिकता**  
आकस्मिकता 69.4 ⇨  
**आकस्मिक पात**  
आकस्मिक पात 1031.4 ⇨  
**आकांक्षतः**  
इच्छापूर्वक 359.34  
**आकांक्षा**  
अपेक्षा 359.3  
इच्छा 359.1  
महत्वाकांक्षा 508.3  
लालसा 359.5  
**आकांक्षा धरान**  
मृग दर्शन 342.6  
**आकांक्षा मोचन**  
कुंठा मोचन 352.12  
**आकांक्षाहीन**  
अमहत्वाकांक्षी 508.10  
इच्छाहीन 360.9  
**आकांक्षाहीनता**  
इच्छाहीनता 360.21

- प्राकाशाहीनता  
अमहरचाकांक्षा 508.4
- प्राकाशित  
अपेक्षित 359.24  
इच्छित 359.19
- प्राकाशी [आकाशिणी]  
इच्छुक 359.21  
लालसी 359.29
- प्राकाश्य  
इच्छनीय 359.20
- प्राकाश  
दास स्वामी 651.17  
नियुक्त कर्ता 653.33  
भृति भर्ता 650.29
- आकार  
आकार माप 961.1  
आकार रूप 967.5  
आयतन 966.3  
रूढ क्रामत 154.1  
क्षेत्रफल 966.1  
ज्यामितीय आकृति 989.1  
खिजाइन 404.14  
धारण क्षमता 966.4  
शारीर 139.1
- आकार अनुकूल होना  
सही आकार होना 961.15
- आकार गोपन  
भाव गोपन 358.11
- आकार चित्र  
आकार चित्र 404.11 ⇨
- आकार छाया  
छायाकृति 405.2
- आकार: छाया  
परछाई 286.6
- आकार दान  
ढलाई 585.7
- आकार देना  
गढ़ना 545.22  
चित्रांकन करना 404.35
- आकार प्रकार  
लक्षण 317.5
- आकार प्रवृत्त  
गढ़ा [गढ़ी] 545.27
- आकार प्रदान  
गढ़ाई 545.4
- आकार माप  
आकार माप 961.1 ⇨  
आयतन माप 959.44
- आकारयुक्त  
साकार 967.12
- आकारयुक्तता  
साकारता 967.1
- आकार रूप  
आकार रूप 967.5 ⇨
- आकार रेखा  
आकार चित्र 404.11
- आकारदान  
साकार 967.12
- सुंदरकाय 158.11  
सुडील 155.4
- आकार से छोटा  
आकार से छोटा 961.17 ⇨
- आकार से बड़ा  
आकार से बड़ा 961.18 ⇨
- आकारहीन  
आयामहीन 964.21  
निराकार 967.13
- आकारहीनता  
आयामहीनता 964.3  
निराकारता 967.2
- आकारीय  
आकृतीय 967.18
- आकार्य  
गढ़नीय 545.30
- आकार्यता  
गढ़नीयता 545.15
- आकालिक  
अप्रत्याशित 376.7
- आकारा  
अंतराल 33.9  
आकारा 2.1 ⇨  
उच्चता: उपमान सूची 982.13  
कर्मसाक्षी देवता सूची 772.18  
छिद्र 271.6  
पंचभूत सूची 78.9  
ब्रह्म 764.24  
ब्रह्मा. चरण सूची 766.3  
शून्य: उपमान सूची 8.15  
स्थान 33.1
- आकारा आरोहण  
नभोत्तरण 1081.18
- आकारा और काल  
दिक्काल 964.16
- आकारा का गोला  
खगोल 1.2
- आकारा कुपुन  
असंभव घटना: उपमान सूची 75.17  
कठिन कार्य: उपमान सूची 487.34  
दिवा स्वप्न 267.2  
मनोकल्पना 308.5
- आकारा कुपुन तोड़ना  
दिवा स्वप्न देखना 267.7
- आकारा कुपुन माना  
कठिन कार्य करना 487.17
- आकारा गंगा  
आकारा गंगा 1.14 ⇨  
तीन गंगा सूची 20.11
- आकारागत  
उका [उकी] 1030.31
- आकारा गमन  
उद्भयन 1030.11  
नभ यात्री 1087.20
- आकारागामिनी  
परी 782.4  
विद्याधर स्त्री 779.16
- आकारागामी  
उद्भयनशील 1030.32
- आकारा गानी  
नभोत्तरित 1081.51
- आकारा चमत्  
चंद्रमा 8.2
- आकाराचर  
विद्याधर 779.15
- आकाराचरी  
परी 782.4
- आकाराचारी  
उद्भयनशील 1030.32  
नभ यात्री 1087.20  
पक्षी 126.1
- आकाराचारी बटी  
आकाराचारी बटी 474.22 ⇨
- आकाराचारी  
गगनचुंबी 982.11
- आकारा जननी  
परकोटा: अस्त्र छिद्र 604.15
- आकारा तरण  
ग्लाइडिंग 1081.21
- आकारा दिशा  
उच्च दिशा 982.4
- आकारा दीप  
प्रकाश स्तंभ 285.31
- आकारा नील  
हलका नीला 289.51
- आकारा पथिक  
सूर्य 8.1
- आकारा पिंड  
आकारा पिंड 3.1 ⇨
- आकारा नाथित  
आकारा वचन 465.4
- आकारा मंडल  
खगोल 1.2
- आकारा मार्ग  
नभ मार्ग 1086.1
- आकारा में  
उच्चता 982.12
- आकारा में जाना  
उड़ना 1030.18
- आकारा में बैठराना  
ग्लाइडिंग करना 1081.46
- आकारा यान  
नभयान 1074.1
- आकारा रेखा  
क्षितिज 2.4
- आकारा वचन  
आकारा वचन 465.4 ⇨  
देव वाणी 742.8
- आकारा वाली  
आकारा वाणी 465.5 ⇨  
आकारा वाणी 472.33 ⇨  
देव वाणी 742.8
- आकारा वाला  
तारांगण 1.8
- आकारा शीर्ष  
खमध्य 2.5
- आकाश सतिल  
ओस 90.11  
दर्वा 54.5
- आकाश सेना  
नभ सेना 932.17
- आकाश स्फटिक  
ओला 54.15
- आकाशी  
आकाशीय 2.7  
उच्च 982.7  
चंदोवा 600.18
- आकाशी झूला  
जायंट झील 1034.12
- आकाशीय  
आकाशीय 2.7 ⇨
- आकाशोवा  
इंद्र 773.5
- आकीर्ण  
प्रसारित 979.17  
सघन 1004.15
- आकीर्णता  
सघनता 1004.5
- आकुचन  
संकुचन 980.9
- आकुचित  
पुंघराला 137.25  
संकुचित 980.26
- आकुचित  
लज्जित 845.10
- आकुल  
आतंकित 395.23  
उद्दिग्ग 377.13  
दिताप्रस्त 377.10  
दमित 911.14
- आकुलता  
उद्दिग्गता 377.4  
शारीरिक पीडा 392.4
- आकुलताकारी  
दिताजनक 377.12
- आकुल न होना  
उद्दिग्ग न होना 378.6
- आकुल होना  
उद्दिग्ग होना 377.7
- आकृत  
प्रेरणा 499.1
- आकृति  
भाव 358.1
- आकृत  
गढ़ा [गढ़ी] 545.27  
साकार 967.12
- आकृति  
अंग अनुपात 155.1  
आकार रूप 967.5  
रूढ क्रामत 154.1  
ज्यामितीय आकृति 989.1  
खिजाइन 404.14

## आकृति: कोण

शरीर 139.1  
आकृति: कोण  
कोण 970.1  
आकृति: कोण बिंदु  
कोण बिंदु 968.4  
आकृति: भुजा  
भुजा 968.27  
आकृतियुक्त  
साकार 967.12  
आकृतिहीन  
निराकार 967.13  
आकृतिहीनता  
निराकारता 967.2  
आकृतीय  
आकृतीय 967.16 ⇨  
आकृष्ट  
आकर्षित 1050.28  
कसा [कसी] 1013.25  
वशीकृत 758.41  
सम्प्राहित 367.6  
आकृष्ट  
आर्तनाद 386.3  
आवाहन 1055.1  
घिल्लाहट 373.8  
भीषण युद्ध 905.7  
युद्धनाद 907.15  
आकृष्टन  
आर्तनाद 386.3  
घुनीती 917.1  
आक्रम  
आक्रमण 914.3  
आदान 637.1  
आक्रमण  
आक्रमण 914.3 ⇨  
रोग आक्रमण 169.1  
हिंसा 251.15  
आक्रमण (दे.)  
सीमातिक्रमण 1001.27  
आक्रमण करना  
आक्रमण करना 914.13 ⇨  
आक्रमण कर्ता  
आक्रांता 914.20  
आक्रमणकारी  
आक्रांता 914.20  
आक्रमण कृत  
आक्रांत 914.18  
आक्रमण नाद  
युद्धनाद 907.15  
आक्रमण पट्ट  
प्रयाण ध्वनि 907.26  
आक्रमण प्रतीक्षा  
घात प्रतीक्षा 914.1  
आक्रमण मोचन  
प्रतिरक्षा 908.2  
आक्रमण यान  
लैंडिंग क्राफ्ट 1072.50  
आक्रमण रोध  
प्रतिरोध 915.1

आक्रमण रोधना  
प्रतिरोध करना 915.4  
आक्रमणातीत  
अनाक्रम्य 519.29  
आक्रमणीय  
आक्रम्य 518.21  
आक्रमित  
आक्रांत 914.18  
आक्रम्य  
आक्रम्य 518.21 ⇨  
आक्रम्यता  
आक्रम्यता 518.9 ⇨  
आक्रम्य  
क्रमण 660.2  
पुनराक्रम्य 660.9  
आक्रमण  
क्रमण 660.2  
आक्रांत  
आक्रांत 914.18 ⇨  
कष्टग्रस्त 392.21  
दमित 911.14  
पराजित 913.5  
आक्रांता  
आक्रांता 914.20 ⇨  
आक्रांति  
आक्रमण 914.3  
आक्रामक  
अतिक्रामक 1001.42  
आक्रांता 914.20  
आक्रामक 914.19 ⇨  
आक्रामकता  
आक्रामकता 914.4 ⇨  
उग्रानुभूति 353.4  
आक्रामकतापूर्ण  
आक्रामक 914.19  
आक्रीड  
क्रीडा उपवन 12.14  
आक्रीड  
क्रीडा स्थल 482.1  
आक्रीड भूमि  
क्रीडा स्थल 482.1  
आक्रीडी  
क्रीडाप्रिय 469.16  
आकृष्ट  
डॉटा [डॉटी] 373.33  
शापित 713.8  
आक्रीश  
आक्रीश 373.3 ⇨  
क्रोध 373.1  
भर्त्सना 843.6  
रुष्टि 374.2  
शाप 713.1  
आक्रीशित  
क्रुद्ध 373.28  
आक्रीश  
आई 88.27  
द्रवित 80.8

आक्लेवन  
आईग 88.17  
आक्षर  
अक्षरीय 410.22  
आक्षरिक  
अक्षरीय 410.22  
आक्षिप्त  
आरोपित 875.25  
आक्षेप  
आपत्ति 326.4  
आरोप 875.7  
झटकाव 169.3  
प्रक्षेप 1052.1  
लांछन 843.7  
आक्षेपक  
आरोप कर्ता 875.9  
आक्षेपण  
प्रक्षेपण 1052.2  
आक्षेपित  
आरोपित 875.25  
आक्षेपी  
आरोप कर्ता 875.9  
आख  
कुदाल 559.7  
आख धू  
भर्त्सना. उद्गार सूची 843.28  
आखर  
खुरपा 563.2  
आखनिक  
खनन कर्मी 1018.7  
आखर  
अक्षर 410.2  
आखरी  
विदा विषयक 1058.6  
आखा  
खरिया 673.19  
आखात  
खंता 559.11  
खनन 1018.1  
फावड़ा 559.24  
आखान  
फावड़ा 559.24  
आखिर  
अंत 995.1  
अंततः 995.17  
अवश्यमेव 68.21  
कार्य समाप्ति 522.1  
कालांतर में 60.16  
कितु 507.18  
छोर 1000.3  
परिणाम 510.1  
आखिर एक दिन  
कालांतर में 60.16  
आखिरकार  
अंततः 995.17  
आखिर क्यों  
क्यों 507.9

आखिरत  
परलोक 258.12  
आखिर में  
कालांतर में 60.16  
आखिरी  
अंतिम 995.11  
आखिरी  
छोरस्थ 1000.15  
आखिरी किनारा  
अंतिम छोर 1000.5  
आखिरी कौड़ी  
कौड़ी अंटा बंधु 479.28  
आखिरी घंटा  
अंतिम अवसर 70.7  
आखिरी घड़ी  
मृत्यु काल 249.10  
आखिरी छंघ  
गीतः अंतिम भाग 451.25  
आखिरी तारीख  
अंतिम दिन 39.4  
आखिरी दौब  
कौड़ी अंटा बंधु 479.28  
आखिरी दिन आना  
प्रलय होना 530.6  
आखिरी निशानी  
अंतिम वंशज 727.25  
आखिरी नौका  
अंतिम अवसर 70.7  
आखिरी रोशर  
गाज़लः समापन रोशर 452.31  
आखिरी साक्षर करना  
मरना 249.18  
आखिरी सीस  
मृत्यु काल 249.10  
आखिरी सीस गिनना  
मरणासन्न होना 249.21  
आखिरी सीस तक  
आयु पर्यंत 229.28  
आखिरी से पहला  
उपातिम 995.14  
आखु  
बूहा 127.60  
सूअर 127.81  
आखुघात  
रुद्र 731.28  
आखुभोजी  
नर बिल्ली 127.57  
आखुपाहन  
गणेश 773.22  
आखेट  
आखेट 252.1 ⇨  
आखेटक  
आखेटक 252.2 ⇨  
आखेटक [आखेटिका]  
आखेटक 252.2  
आखेटक जीव  
आखेटक जीव 252.3 ⇨

<b>आखेट करना</b>	<b>आख्यानक</b>	<b>आग फौकना</b>	<b>आगस्ती</b>
आखेट करना 252.28 ⇨	कथानक 466.11	डींग मारना 842.9	दक्षिण 29 10
<b>आखेट गड़वा</b>	<b>आख्यापन</b>	<b>आग बहाना</b>	<b>आगस्त्व</b>
आखेट गड़वा 252.24 ⇨	घोषणा 441.10	आग बुझाना 108.12	दक्षिणी 29 31
<b>आखेट चारा</b>	<b>आख्यायक</b>	<b>आग बबूला</b>	<b>आगा</b>
आखेट चारा 252.6 ⇨	कथन कर्ता 430 18	अति क्रुद्ध 373.30	अगला डैक 1073 28
<b>आखेट पशु</b>	<b>आख्यायिका</b>	<b>आग बरसना</b>	अग्रभाग 994 9
आखेटित पशु 252.4	कथा कृति 450.3	कड़ी गरमी होना 53.12	<b>आगा</b>
<b>आखेट पारा</b>	छोटी कहानी 450.10	<b>आग बुझाना</b>	आगा खॉं 744 15
पशु पारा 1013 12	सत्य कथा 450.16	आग बुझाना 108.12 ⇨	दास स्वामी 651 17
<b>आखेट फेंदा</b>	<b>आगंतु</b>	<b>आगम</b>	<b>आगा</b>
फेंक फेंदा 1013.10	आगंतुक 1093 12	आगम तर्कण 325 12	नीकाग्र 1073 23
<b>आखेट मंत्र</b>	<b>आगंतुक</b>	आगमन 1093 1	पुरुष जननेद्रिय 152.10
आखेट मंत्र 252.23 ⇨	अतिथि 183.16	आय 643 1	<b>आगा</b>
<b>आखेट मांस</b>	आगंतुक 1093.12 ⇨	उपपत्ति 328 1	बड़ा भाई 723.9
आखेट मांस 206.14 ⇨	आप्रयासी 618 30	गतव्य प्राप्ति 1100.3	<b>आगा</b>
<b>आखेट यात्रा</b>	प्रवेश कर्ता 1094.26	परिणामत प्राप्त 510 11	बाहर वाला आँगन 604 5
आखेट यात्रा 252.21 ⇨	<b>आग</b>	प्रवेश 1094 1	मुख मडल 140.11
<b>आखेट बन</b>	अग्नि 106 1	प्रवेश मार्ग 1094 6	यक्ष 146 1
आखेट स्थल 252.22	अग्नि ज्वाला 106.8	प्रवेश संकेत सूची 1094 31	सामना पल्ला 585 72
<b>आखेट स्थल</b>	ईर्ष्या 709 1	वेद 740 22	सेनाग्र 933 1
आखेट स्थल 252.22 ⇨	क्रोध 373.1	सभा 694 1	<b>आगा</b>
<b>आखेटित पशु</b>	मनोव्यथा 391 7	<b>आगम तर्कण</b>	स्वामी 621 2
आखेटित पशु 252.4 ⇨	<b>आग के मोल</b>	आगम तर्कण 325.12 ⇨	<b>आगा खॉं</b>
<b>आखेटी</b>	बहुमूल्यतः 664.38	<b>आगमन</b>	आगा खॉं 744 15 ⇨
आखेटक जीव 252 3	<b>आग जगना</b>	आगम तर्कण 325.12	<b>आगाज</b>
<b>आखेटीय</b>	अग्नि उद्दीप्त होना 107 11	आगमन 1093 1 ⇨	आरंभ 994 3
आखेटीय 252.31 ⇨	<b>आगजनी</b>	गतव्य प्राप्ति 1100.3	<b>आगा तागा लेना</b>
<b>आखौर</b>	अनिकांड 108.5	जन्म 248 1	सत्कार करना 184 4
चारा 556.4	<b>आग जलाना</b>	प्रवेशन 1094 3	<b>आगा पीछा</b>
पशु जल पान स्थान 207 12	आग जलाना 107.10 ⇨	<b>आगमन कक्ष</b>	गुप्तांग 152 1
रही 526 13	आग जलाना: कर्म	स्वागत कक्ष 1059 4	दुषिधा 501 1
सानी नौद 556 3	अन्याधान 107 1	<b>आगमन मार्ग</b>	विमर्श 330 11
<b>आखौर की भर्ती</b>	<b>आगत</b>	प्रवेश मार्ग 1094.6	हिचक 501 3
घूरा 218.19	आगत 1093 11 ⇨	<b>आगम निगम</b>	<b>आगा पीछा करना</b>
<b>आख्या</b>	उदित 5.28	वेद 740 22	बहानेबाज़ी करना 495.10
उक्ति 434 1	गंतव्यप्राप्त 1100.6	<b>आगम शास्त्र</b>	<b>आगामी</b>
परिभाषा 317.1	घटित 75.11	तर्क शास्त्र 325 17	आगामी 1093.13 ⇨
विवरण 449 8	परिणामतः प्राप्त 510.11	<b>आगमापायी</b>	आसन्न 67 10
व्याख्या 427 15	प्रविष्ट 1094 24	अवागमन ग्रस्त 246.12	भविष्य 67 8
<b>आख्यात</b>	प्राप्त 637 8	<b>आगमी</b>	<b>आगामी कल</b>
कथित 430.16	वर्तमान 68 6	अंगविद्य 261.45	आगामी कल 46.14 ⇨
ख्यात 847.3	<b>आगतता</b>	<b>आगर</b>	<b>आगामी काल</b>
संज्ञापित 441 19	आसन्नता 67 2	अधिक 944.5	भविष्य काल 36.14
<b>आख्याता</b>	<b>आगत स्वागत</b>	खान 92 14	<b>आगामी भाव</b>
अध्यापक 323.8	सत्कार 184.1	गृह 601 1	भविष्यता 67.1
कथन कर्ता 430.18	<b>आगति</b>	ढेर 686.6	<b>आगार</b>
संज्ञापक 441.20	अवसर 70.1	भंडार 670.3	कमरा 614.1
<b>आख्याति</b>	आगमन 1093.1	<b>आगल</b>	कोश 630.1
संसूचना 441.6	गंतव्य प्राप्ति 1100 3	अग्रतः 994.22	खान 92 14
<b>आख्यान</b>	घटना 76.1	<b>आग लगना</b>	गृह 601.1
कथन 430.1	प्राप्ति 637 2	ईर्ष्या होना 709.3	दुकान 682.1
कथा कृति 450.3	<b>आग देना</b>	<b>आग लगाई</b>	भंडार 670.3
घटना चक्र 75.4	शवदाह करना 253.31	दहन 108.1	भंडार घर 670.5
लोक कथा 450.7	<b>आग पकड़ना</b>	<b>आग लगाना</b>	भवन 802.7
वर्णन साहित्य 449.3	दग्ध होना 108.9	आग खलाना 107.10	संग्रहालय 669.8
विवरण 449.8	<b>आग पानी</b>	<b>आग से धुरै का अनुमान</b>	<b>आगारीय</b>
वृत्तांत 449.14	विपरीतता: उपमान सूची 310.13	निगमन 325.13	गृहीय 601.13

## आगाह

**आगाह**  
ज्ञानी 305.30  
परिज्ञाता 305.33  
**आगाह करना**  
घेतावनी देना 917.10  
**आगाही**  
घेतावनी 917.2  
नोटिस 875.16  
परिज्ञान 305.13  
सूचना 441.1  
**आगुच्छन**  
गुच्छन 667.2  
**आगे**  
अग्रतः 994.22  
अनिकट भविष्य मे 36.36  
आगे आगे 1096.14  
इस के उपरांत 39.19  
उत्तर काल मे 60.17  
पुनः 73.5  
पूर्व काल में 60.18  
पूर्वत 60.19  
प्रथमतः 505.38  
भविष्य काल मे 36.34  
सदर्थत 437.18  
**आगे आगे**  
आगे आगे 1096.14 ⇨  
**आगे करना**  
आगे करना 994.13 ⇨  
आगे करना 1095.8 ⇨  
**आगे की ओर**  
आगे आगे 1096.14  
**आगे की तरफ**  
आगे आगे 1096.14  
**आगे चलना**  
आगे चलना 1096.5 ⇨  
**आगे चौका पीछे सँकरा भवन**  
सिंहमुखी भवन 602.31  
**आगे निकलना**  
पीछे छोड़ना 1095.10  
**आगे पठाना**  
आगे भेजना 1054.11  
**आगे पीछे**  
अग्रतः पश्चतः 994.19  
क्रमशः 991.28  
निकट में 31.9  
मित्र काल में 60.15  
संग संग 696.26  
**आगे पीछे की जोत**  
जोतः टनडम 1071.34  
**आगे पीछे घुलना**  
सत्कार करना 184.4  
**आगे पीछे स्वर स्पर्शा उच्चारण**  
मुर्का 460.11  
**आगे बढ़ कर**  
उद्यततः 491.19  
स्वागतपूर्वक 1059.28  
**आगे बढ़ना**  
प्रगति करना 1095.7

**आगे भेजना**  
आगे भेजना 1054.11 ⇨  
**आगे सँकरा पीछे चौका भवन**  
गोमुखी भवन 602.30  
**आगे सरकाना**  
आगे भेजना 1054.11  
**आगे से**  
अब के उपरांत 39.17  
**आगे से पीछे**  
आरोहतः 991.29  
**आगे होना**  
आगे होना 994.12 ⇨  
**आगोवा**  
गोदी 721.7  
**आगोश में लेना**  
आलिंगन करना 237.12  
**आग्निक**  
अग्नीय 106.23  
**आग्नीध्र**  
यज्ञाग्नि 106.4  
**आग्नेय**  
अग्नीय 106.23  
स्कंद 773.50  
स्वर्ण 95.4  
**आग्नेय कोण**  
दक्षिण पूर्व 29.17  
**आग्नेय पर्वत**  
ज्वालामुखी पर्वत 9.18  
**आग्नेयस्त्र**  
आग्नेयास्त्र 927.1 ⇨  
**आग्रह**  
आग्रह 349.1 ⇨  
परिग्रह वृत्ति 359.9  
पूर्व धारणा 343.8  
सकल्प 500.1  
**आग्रह करना**  
आग्रह करना 349.6 ⇨  
**आग्रह कर्ता**  
आग्रह कर्ता 349.11 ⇨  
**आग्रहपूर्ण**  
आग्रहपूर्ण 349.10 ⇨  
**आग्रही**  
आग्रह कर्ता 349.11  
**आघट्टना**  
संपर्क 703.5  
**आघर्षण**  
घर्षण 541.1  
**आघर्षणी**  
रबड़ 416.28  
**आघात**  
सीमांत 1001.19  
सीमांत क्षेत्र 34.4  
**आघात**  
आघात 169.2 ⇨  
आहत 168.1  
टिल्ला 1052.11  
ठेस 1051.17  
ठोकर 1084.10

प्रहार 918.1  
मनोघात 354.3  
मारण 251.1  
रोग आक्रमण 169.1  
शौक 101.10  
संकट 909.1  
स्वराघात 411.8  
**आघात अनिवारण**  
प्रहार अनिवारण 919.2  
**आघात उभराव**  
उपटाव 166.3  
**आघातक**  
प्रहारक 918.31  
**आघात करना**  
प्रहार करना 918.21  
**आघात कर्ता**  
प्रहारक 918.31  
**आघात वर्धन**  
आघात वर्धन 545.6 ⇨  
**आघात वर्धित**  
आघात वर्धित 545.29 ⇨  
**आघात वर्धित करना**  
आघात वर्धित करना 545.23 ⇨  
**आघातवर्ध**  
आघातवर्ध 545.31 ⇨  
**आघात वर्ध**  
आघातवर्ध 545.31  
**आघात वर्धता**  
आघात वर्धता 545.16 ⇨  
**आघातशील**  
प्रहारशील 918.32  
**आघात सहन**  
प्रहार सहन 920.1  
**आघात सीमा**  
प्रहार सीमा 918.2  
**आघाती**  
प्रहारक 918.31  
**आधार**  
छिड़काव 688.7  
**आधूर्णक**  
चक्रणशील 1033.18  
**आधूर्णित**  
चक्रित 1033.17  
**आधोष**  
मुनादी 441.11  
**आधोषक**  
मुनादी वाला 441.24  
**आधोषणा**  
मुनादी 441.11  
**आधोषी**  
मुनादी वाला 441.24  
**आघ्राणक**  
घ्राण कर्ता 273.12  
**आघ्राणन**  
आघ्राणन 273.2 ⇨  
**आघ्राणित**  
आघ्राणित 273.11 ⇨

**आचक्रक**  
चक्रणशील 1033.18  
**आचक्रित**  
चक्रित 1033.17  
**आचमन**  
आचमन 221.1 ⇨  
बोडशीपधार सूधी 750.4  
**आचमनक**  
आचमन जल 221.2  
**आचमन जल**  
आचमन जल 221.2 ⇨  
**आचमन पात्र**  
धूकदानी 218.23  
**आचमनीयक**  
आचमन जल 221.2  
**आचय**  
घयन 1009.2  
ढेर 688.8  
**आचरण**  
आचरण 808.1 ⇨  
आज्ञा पालन 347.6  
कार्यान्वयन 505.5  
व्यवहार 828.1  
**आचरण करना**  
आचरण करना 808.9 ⇨  
आज्ञा पालन करना 347.11  
**आचरणवान [आचरणवती]**  
शिष्ट 733.18  
**आचरण वृत्ति**  
मनोवृत्ति 351.7  
**आचरण शैली**  
चरित्र 810.1  
**आचरणहीन**  
दुरचरित्र 811.5  
**आचरणहीनता**  
दुरचरित्रता 811.1  
**आचरणगीय**  
आचरणगीय 808.13 ⇨  
**आचरित**  
आचरित 808.12 ⇨  
कार्यान्वित 505.27  
**आचर्य**  
आचरणगीय 808.13  
**आचवन**  
आचमन 221.1  
**आचान**  
आचमन 221.1  
**आचार**  
आचरण 808.1  
चरित्र 810.1  
परिपाटी 514.9  
लोक व्यवहार नियम 878.2  
सध्यचरित्रता 810.2  
**आचारज**  
आचार्य 323.11  
धर्म शिक्षक 742.21  
**आचारप्रद**  
दुरचरित्र 811.5



- आचारध्रुवता  
दुश्चरित्रता 811.1
- आचार बजित  
बहिष्कृत 870.31
- आचारदान  
सच्यरित्र 810.5
- आचारदान [आचारवती]  
शिष्ट 733.18
- आचार व्यवहार  
आचरण 808.1  
परंपरा 795.1
- आचारशून्य  
दुश्चरित्र 811.5
- आचार सौती  
आंचलिक प्रवृत्ति 453.14
- आचार संहिता  
विधि संहिता 878.6
- आचार समष्टि  
चरित्र 810.1
- आचार सीमा  
मर्यादा 808.5
- आचारहीन  
दुश्चरित्र 811.5
- आचारी विचारी  
शिष्ट 733.18
- आचारी संप्रदाय  
रामानुजी संप्रदाय 737.42
- आचार्य  
आचार्य 323.11 ⇌  
गुरु 323.1  
द्रोणाचार्य 771.63  
धर्म ग्रंथज्ञ 738.2  
धर्म शिक्षक 742.21  
धर्माचार्य 790.2  
मठाधीश 744.1  
वैद्य 172.8
- आचार्य [आचार्य]  
आचार्य 323.11
- आचार्यक  
शिक्षा पाठ 322.5
- आचूषक  
अवशोषक 1002.30  
घुसने वाला 181.58
- आचूषण  
अवशोषण 1002.10  
घुषण 181.18
- आचूषण (वे.)  
मुष्कन 89.2
- आचूषित  
अवशोषित 1002.29  
घुसा [घुसी] 181.68
- आच्छन्न  
आच्छादित 592.13  
प्रच्छन्न 824.26  
मेघाच्छन्न 55.14
- आच्छन्नता  
मेघाच्छन्नता 55.7
- आच्छाजन  
आच्छाजन 600.2 ⇌  
छज्जा 611.27
- आच्छाजित  
आच्छाजित 600.29 ⇌
- आच्छाजित करना  
आच्छाजित करना 600.27 ⇌
- आच्छाद  
आच्छाद 593.1 ⇌  
छत 611.11  
परिधान 583.1  
पिधान 675.3  
वस्त्र 579.1  
वस्त्राच्छाद 593.2
- आच्छादक  
आच्छादन कर्ता 592.14  
गहन प्रभावी 511.19
- आच्छादक वस्तु  
आच्छाद 593.1
- आच्छादक वस्त्र  
वस्त्राच्छाद 593.2
- आच्छादन  
आच्छाजन 600.2  
आच्छाद 593.1  
आच्छादन 592.1 ⇌  
प्रच्छन्न 824.8  
व्याप्ति 981.5
- आच्छादन करना  
आच्छादित करना 592.8
- आच्छादन कर्ता  
आच्छादन कर्ता 592.14 ⇌
- आच्छादित  
आच्छादित 592.13 ⇌  
गहन प्रभावित 511.15  
वेशित 589.25
- आच्छादित करना  
आच्छाजित करना 600.27  
आच्छादित करना 592.8 ⇌
- आच्छादित शब्  
जनाज्ञा 254.6
- आच्छादी  
आच्छादन कर्ता 592.14
- आच्छन्न  
आच्छादन 592.1
- आच्छन्न  
आच्छादित 592.13
- आज  
आज 46.11 ⇌  
वर्तमान काल 36.13  
वर्तमान में 36.33
- आजकल  
आधुनिक काल 76.9  
वर्तमान काल 36.13  
वर्तमान में 36.33
- आज कल करना  
टालमटोल करना 495.8
- आजकल का  
आधुनिक 64.7
- आजकल में  
आसन्नतः 87.12
- आज का  
आधुनिक 64.7
- आज का मूल्य  
प्रचलित मूल्य 664.3
- आजगव  
शिवः धनुष 926.12
- आज तक  
अब तक 39.14
- आजनि  
वंश 727.1
- आजन्म  
आयु पर्यंत 229.28
- आजन्म-ब्रह्मचारी  
बाल ब्रह्मचारी 234.6  
भीष्म 771.77
- आज भी  
वर्तमान में 36.33
- आजमाइरा  
आजमाइरा 524.5 ⇌  
परीक्षा 322.11
- आजमाना  
आजमाना 524.11 ⇌  
परीक्षा करना 322.33
- आजमाया [आजमाई]  
आजमाया [आजमाई] 524.17 ⇌  
परीक्षित 322.37
- आजमूबा  
आजमाया [आजमाई] 524.17  
परीक्षित 322.37
- आजा  
दादा 722.5
- आजा गुरु  
गुरुः गुरु 323.4
- आजाब  
अनिष्ट 880.13  
अलमस्त 382.23  
उन्मुक्त 1015.9  
नियंत्रणहीन 900.8  
स्वच्छेचारितापूर्ण 809.6  
स्वाधीन 900.7  
स्वेच्छाचारी 809.7
- आजाब करना  
उन्मुक्त करना 1015.7
- आजाब ख्याली  
स्वतंत्र विचार 330.4
- आजाब गुलान  
मुक्त दास 851.16
- आजाब होना  
उन्मुक्त होना 1015.6
- आजाबाना  
स्वच्छेचारितापूर्ण 809.6
- आजाबी  
उन्मुक्तता 1015.4  
उन्मुक्ति 1015.3  
स्वेच्छापूर्णता 650.6
- आजाबी का बीबाना  
स्वतंत्रता सेनानी 904.2
- आजाबी के लिए लड़ना  
स्वतंत्रता संग्राम करना 904.16
- आजाबी से  
अवरोधहीनतः 1049.23  
स्वेच्छाचारितः 809.11
- आजान देवता  
आजान देवता 772.15 ⇌
- आजानि  
उष्म कुल 728.2
- आजानुबाहु  
विरालबाहु 158.32
- आजि  
दोड़ मैदान 1063.27
- आजिज़  
उत्पीडित 391.28  
परेशान 519.21  
विनम्र 733.19
- आजिज़ी  
गिड़गिड़ाहट 350.8  
विचरता 901.3
- आजी  
दादी 722.6
- आजीव  
आजीविका 650.1
- आजीवक  
जैन साधु 790.24
- आजीवन  
आयु पर्यंत 229.28  
दीर्घ काल तक 37.11
- आजीवन कारावास  
आजीवन कारावास 868.14 ⇌
- आजीवन कारावासी  
आजीवन बंदी 868.19
- आजीवन बंदी  
आजीवन बंदी 868.19 ⇌
- आजीवन ब्रह्मचर्य  
आजीवन ब्रह्मचर्य 234.7 ⇌
- आजीवन ब्रह्मचारी  
आजीवन ब्रह्मचारी 234.12 ⇌
- आजीविका  
आजीविका 650.1 ⇌
- आजीविका अर्जन  
अर्जन 648.1
- आजीविका एर्जसी  
रोज़गार एर्जसी 650.3
- आजीविका कार्यालय  
रोज़गार कार्यालय 650.2
- आजीविका दास्ता  
भृति पत्रा 650.29
- आजीविका प्रदान  
पद नियुक्ति 653.6
- आजीविकायुक्त  
आजीविकायुक्त 650.18 ⇌
- आजीविकाहीन  
आजीविकाहीन 649.11 ⇌

## आजीविकाहीनता

### आजीविकाहीनता

आजीविकाहीनता 649.3 ⇨

### आजीविकाहीन होना

आजीविकाहीन होना 649.6 ⇨

### आजीविकीय

आजीविकीय 650.17 ⇨

### आजुल

विदा गीत 796.28

### आजू

बेगार श्रमिक 643.21

### आजू बाजू

दक्षिण वाम पार्श्व में 997.24

### आजू बाजू

निकट में 31.9

### आजू बाजू

पार्श्वचरत 696.28

### आज्ञाप

आज्ञापित 347.14

### आज्ञापित

आज्ञा 347.1

### आज्ञा

अनुमति 337.5

आज्ञा 347.1 ⇨

धर्म आदेश 742.7

### आज्ञा करना

आज्ञा देना 347.8

### आज्ञाकारिता

आज्ञा पालकता 347.7

### आज्ञाकारी

आज्ञा पालक 347.12

### आज्ञा चक्र

षड्घक सूची 757.8

### आज्ञात्मक

आज्ञात्मक 347.13 ⇨

### आज्ञा दाता

आज्ञापक 347.15

### आज्ञा देना

आज्ञा देना 347.8 ⇨

### आज्ञाधीन

अधीनस्थ 652.40

### आज्ञाधीनता

अधीनस्थता 652.32

### आज्ञा न मानना

अवज्ञा करना 348.4

### आज्ञानुसार

आज्ञानुसारत 347.22

### आज्ञानुसारतः

आज्ञानुसारत 347.22 ⇨

### आज्ञापक

आज्ञापक 347.15 ⇨

### आज्ञापत्र

आज्ञापत्र 347.5 ⇨

### आज्ञा पालक

आज्ञा पालक 347.12 ⇨

### आज्ञा पालकता

आज्ञा पालकता 347.7 ⇨

### आज्ञा पालन

आज्ञा पालन 347.6 ⇨

### आज्ञा पालन करना

आज्ञा पालन करना 347.11 ⇨

### आज्ञापित

आज्ञापित 347.14 ⇨

### आज्ञापूर्ण

आज्ञात्मक 347.13

### आज्ञापूर्वक

आज्ञापूर्वक 347.21 ⇨

### आज्ञा मानव

यत्र मानव 558.11

### आज्ञा मुक्त

आज्ञा मुक्त 348.8 ⇨

### आज्ञा मुक्त होना

आज्ञा मुक्त होना 348.5 ⇨

### आज्ञा मुक्ति

आज्ञा मुक्ति 348.3 ⇨

### आज्ञा से

आज्ञापूर्वक 347.21

### आज्ञात्वलयन

अवज्ञा 348.1

### आज्य

घी 196.7

### आटना

आच्छादित करना 592.8

### आटविक

वन्य 12.36

### आटा

आटा 192.3 ⇨

### आटा आदि: कक्ष

चून चबारा 870.20

### आटा चावल

परचून 666.8

परचून सूची 186.9

### आटा बाल

अनपका भिक्षात्र 642.9

परचून 666.8

परचून सूची 186.9

### आटा बनाना

पीसना 540.14

### आटि

आटि 126.13 ⇨

जलपक्षी सूची 126.7

### आटोप

तड़क भड़क 226.4

दर्प 858.5

पाखंड 825.2

प्रसार 979.3

व्यापकता 981.3

हेकड़ी 734.10

### आटोबाहन (जर्मन)

मोटर मार्ग 1063.14

### आटोभेशन (ऑ)

यत्र चालन 1046.4

### आटोमेटाइज़ेशन (ऑ)

यंत्रीकरण 1046.5

### आटोमेटाइज़ (ऑ)

यंत्रीकृत 1046.28

### आटोमेटिक (ऑ)

यंत्र घालित 1046.27

### आटोमोबाइल (ऑ)

आज्ञापित 1071.54

### आठ

आठ 948.31 ⇨

### आठ अवगुण

आठ अवगुण 761.12 ⇨

### आठ अवगुण सूची

आठ अवगुण सूची 761.13 ⇨

### आठ: उपमान सूची

आठ उपमान सूची 948.32 ⇨

### आठ खंडा [आठ खंडी]

आठ खंडीय 938.58

### आठ खंडीय

आठ खंडीय 938.58 ⇨

### आठ दिशा सूची

आठ दिशा सूची 29.6 ⇨

### आठ नागराज सूची

आठ नागराज सूची 778.18 ⇨

### आठ पहर

अहोरात्र 46.10

आठ पहर 49.2 ⇨

### आठ प्रहर

आठ पहर 49.2

### आठ याम

आठ पहर 49.2

आठ वर्णः प्रति चरण

अनुष्टुम 452.8

### आठ वसु

तैत्तिरीय देवता सूची 772.35

### आठ वसु सूची

आठ वसु सूची 777.8 ⇨

### आठवीं [आठवीं]

आठवीं [आठवीं] 948.94 ⇨

### आठवीं भाग

अष्टाश 949.21

### आठः समुदाय

आठः समुदाय 687.10 ⇨

### आठें

अष्टमी 44.14

### आठों

अष्टमी 44.14

### आठों पहर

पूरे दिन 1049.21

### आठों याम

पूरे दिन 1049.21

### आठंबर

अभिमान 858.1

तड़क भड़क 226.4

दिखावा 825.1

धर्म कर्मः आठंबर 747.2

पाखंड 825.2

मेघः गंडगडाहट 297.11

युद्धनाद 907.15

विस्तार 981.2

व्यापकता 981.3

### आठंबरपूर्ण

तड़कभड़कदार 226.14

### आठंबरपूर्ण भाषा

शब्दाठंबर 421.28

### आठंबरहीन

पाखंडहीन 822.31

### आठंबरी

धर्म पाखंडी 825.4

### आठ

अवरोधक 1047.28

आठ 605.1 ⇨

परकोटा. अठ्ठद 604.16

शरण 910.4

### आठ करना

आठ करना 605.15 ⇨

### आठदार

आठदार 605.16 ⇨

### आठ में

आठ में 605.17 ⇨

### आठा [आठी]

अनुकित्तिज 1020.12

आठा तिरछा [आठी तिरछी]

आठ तिरछा [आठी तिरछी] 1026.10 ⇨

### आठातिरछापन

आठातिरछापन 1026.4 ⇨

### आठापन

अनुकित्तिजता 1020.5

### आठा बौस

मस्तूल अठ्ठडा 1073.14

आठा बेड़ा [आठी बेड़ी]

आठ तिरछा [आठी तिरछी] 1026.10

### आठा समय

अनुपयुक्त अवसर 70.4

### आठि

असुर सूची 783.8

आठि 126.13

दैत्य सूची 783.19

### आठियो कैसेट

आठियो कैसेट 300.21 ⇨

### आठियो कैसेट (ऑ)

आठियो कैसेट 300.21

### आठी काट

आठी काट 543.3 ⇨

### आठी धारी

आठी रेखा 988.20

### आठी रेखा

आठी रेखा 988.20 ⇨

क्षितिज रेखा 988.21

### आठू

आठू 190.7 ⇨

खाद्य फल सूची 190.2

### आठू

बकी भेली 977.15

### आठें

पार्श्व की ओर 997.23

दक्रतः 974.24

### आठें तिरछे

आठें तिरछे 1026.12 ⇨

आने ब्रह्म की दोस्ती  
निस्वार्थ मित्रता 705.9

**आकृत**  
आकृत 659.6 ⇨  
दलाल शुल्क 659.5

**आकृत घर**  
आकृत 659.6

**आकृतवार**  
आकृती 659.7

**आकृतिया**  
आकृती 659.7

**आकृती**  
आकृती 659.7 ⇨

**आकृषक**  
धनप्रद 628.27

**आकृष**  
अत्यधिक 944.7  
धनाकृष 626.14  
लदा [लदी] 1061.24  
सहित 1006.2

**-आकृष**  
सहित: प्रत्यय सूची 1006.5

**आकृषला**  
अत्यधिकता 944.2

**आणक**  
आना 629.9

**आणव**  
सूक्ष्म 980.21

**आणविक**  
परमाणविक 78.26

**आणविक अस्त्र**  
परमाणु अस्त्र 927.15

**आणविक बम**  
आणविक बम 927.16 ⇨

**आणविक भार**  
आणविक भार 962.59 ⇨

**आणि**  
अक्षय कील 1077.14  
मर्मस्थल 999.6

**आतंक**  
आतंक 395.5 ⇨  
प्रताप 849.5  
भय 395.1

**आतंकपूर्ण**  
आतंकपूर्ण 395.22 ⇨

**आतंकवाद**  
आतंकवाद 395.6 ⇨

**आतंकवादी**  
आतंकवादी 395.24 ⇨

**आतंकानुभूति**  
आतंकानुभूति 353.6 ⇨

**आतंकित**  
आतंकित 395.23 ⇨  
भयभीत 395.19

**आतंकित होना**  
आतंकित होना 395.16 ⇨

**आतंजन**  
दही जमाई 664.10

दही जमाई द्वय 554.11  
स्कंदन 81.5

**आतंजित**  
स्कंदित 81.17

**आतंजित होना**  
स्कंदित होना 81.10

**आतंजायी**  
अत्याचारी 835.13  
निर्दय 835.10  
यंत्रणा दाता 391.32  
शस्त्रधारी 930.6  
हिंसक 251.31

**आतन**  
तनाई 1013.5

**आतप**  
उष्णता 104.1  
ग्रीष्म: अनुभूति 53.7  
ताप 103.1  
घूप 287.8

**आतपन**  
तापन 104.4

**आतप्य**  
अति उष्ण 104.20  
तप 104.22

**आतप्यता**  
तप्यता 104.3

**आतप्यन**  
तुष्टीकरण 374.7  
तृप्ति प्रदान 361.6

**आतशस्त्राना**  
पारसी मंदिर 745.38

**आतशी**  
अग्नीय 106.23

**आतशी शीशा**  
आतशी शीशा 283.7 ⇨

**आता [आती]**  
प्राप्त (बोध) 301.28

**आतापि**  
असुर सूची 783.8  
दानव सूची 783.13  
राक्षस सूची 784.4

**आतापि बातापि**  
असुरादि जोड़ी सूची 783.4

**आतापि बातापि: पिता**  
विप्रप्रति 783.15

**आतापी**  
धील 126.41

**आतात्र**  
हलका लाल 289.62

**आतिथ्य**  
अतिथि परायण 183.40  
आतिथ्य 183.15 ⇨  
ज्ञत्कार 184.1

**आतिथ्य (दे.)**  
भोजदाता 183.14  
सत्कर्ता 184.7

**आतिथ्य**  
सत्कार 184.1

**आतिथ्य परायण**  
अतिथि परायण 183.40

**आतिवाहिक**  
सूक्ष्म शरीर 139.2

**आतिरा**  
अग्नि 106.1

**आतिरागर**  
आतिरागर 56.10 ⇨

**आतिरागाह**  
पारसी मंदिर 745.38

**आतिराज्ञन**  
घक्रमक्र 107.6

**आतिरापरस्त**  
पारसी धर्मावलंबी 736.27

**आतिराबाज्ञ**  
आतिरागर 56.10

**आतिराबाज्ञी**  
आतिराबाज्ञी 56.5 ⇨

**आतिराबाज्ञी (दे.)**  
उत्सवग्नि 106.2

**आतिराबाज्ञी निर्माता**  
आतिरागर 56.10

**आतिराबाज्ञी सूची**  
आतिराबाज्ञी सूची 56.6 ⇨

**आतुर**  
आतंकित 395.23  
आतुर 496.11 ⇨  
उत्पीडित 391.28  
दुःखी 391.24  
धैर्यहीन 395.27

**आतुरता**  
आतुरता 496.3 ⇨

**अःतुरता अभाव**  
अनातुरता 497.2

**आतुर प्रतीक्षक**  
आतुर प्रतीक्षक 1057.11 ⇨

**आतुर प्रतीक्षा**  
आतुर प्रतीक्षा 1057.2 ⇨

**आतुर प्रतीक्षा करना**  
आतुर प्रतीक्षा करना 1057.6 ⇨

**आतुर होना**  
आतुर होना 496.7 ⇨

**आत**  
प्राप्त (बोध) 301.28

**आतगर्भ**  
अभिमान मर्दित 91.12

**आतर्भरि**  
इकलपुरा [इकलपुरी] 183.39  
स्वार्थ साधक 712.17

**आतल**  
मेरा [मेरी] 316.27  
मैं 316.20  
वैयक्तिक 689.3

**-आतलक**  
सहित: प्रत्यय सूची 1006.5

**आतलकथन**  
भूमिका 447.8

**आतलकथा**  
आतलकथा 450.21 ⇨  
आपबीती 450.17

**आतलकल्याण**  
आतलहित 712.3

**आतलकृततः**  
स्वकृततः 505.35

**आतलकृत वचन**  
आतलसात् वचन 465.2

**आतलकंप्रता**  
आतललीनता 331.7

**आतलकंप्रित**  
अतराभिमुखी 838.14  
आतललीन 331.15

**आतलकमता**  
आतलविश्वास 487.8

**आतलकमता: विश्वास**  
आतलविश्वास 487.8

**आतलगीरय**  
अभिमान 858.1  
स्याभिमान 858.3

**आतलप्राही**  
स्वार्थ साधक 712.17

**आतलघात**  
आतलहत्या 249.13

**आतलघातक**  
आतलहता 249.31

**आतलघाती**  
आतलहंता 249.31

**आतलघोष**  
कोआ 126.22  
नर मुरगी 126.65

**आतलघोषित**  
स्वघोषित (दावेदार) 897.19

**आतलघरित**  
आतलकथा 450.21

**आतलघरित्र**  
आतलकथा 450.21

**आतलघालित**  
यत्र घालित 1046.27

**आतलज**  
पुत्र 718.3

**आतलज [आतलजा]**  
औरस 716.15

**आतलजला**  
औरसता 716.2  
जनन संबंध 716.1

**आतलजन**  
स्वजन 725.1

**आतलजनीय**  
स्वजनीय 725.5

**आतलजय**  
इंद्रिय निग्रह 364.4

**आतलजा**  
पुत्री 718.10

**आतलजेता**  
जितेंद्रिय 364.14

## आत्मज्ञान

आत्मज्ञान  
अंतज्ञान 761.3  
आत्मज्ञान 761.4 ⇨  
आत्मज्ञानजन्य आनंद  
आत्मानंद 382.5  
आत्मज्ञानी  
आत्मज्ञानी 761.28 ⇨  
आत्मज्योति  
शिव 767.1  
आत्मता  
यंत्र चालितता 1046.33  
स्वतःकृतता 505.36  
आत्म तत्त्व  
अह तत्त्व 351.3  
आत्मता  
वैयक्तिकता 689.2  
व्यक्तित्व 836.1  
स्वभाव 836.4  
आत्मत्याग  
आत्मबलि 754.3  
स्वार्थ त्याग 712.8  
आत्मत्यागी  
आत्मबलिदानी 754.23  
स्वार्थ त्यागी 712.19  
आत्मत्वयुक्त  
व्यक्तित्वयुक्त 836.7  
आत्मदर्शन  
आत्मज्ञान 761.4  
आत्मनिरीक्षण 284.28  
आत्मदर्शी  
आत्मज्ञानी 761.28  
आत्मनिरीक्षक 284.29  
आत्मदान  
स्वार्थ त्याग 712.8  
आत्मब्रह्मा  
आत्मज्ञानी 761.28  
सिद्ध साधु 790.30  
आत्मद्रोही  
आत्मद्वेषी 709.8  
स्वपीडक 391.31  
आत्मद्वेषी  
आत्मद्वेषी 709.8 ⇨  
आत्मनिग्रह  
संयम 808.8  
आत्मनिग्रही  
संयमी 808.17  
आत्मनियंत्रण  
संयम 808.8  
आत्मनियंत्रण में रहना  
संयम पालना 808.11  
आत्मनियंत्रणहीनता  
असंयम 809.3  
आत्मनियंत्रित  
संयमित 808.16  
आत्मनिरीक्षक  
आत्मनिरीक्षक 284.29 ⇨  
आत्मनिरीक्षण  
आत्मनिरीक्षण 284.28 ⇨

आत्मनिरीक्षण करना  
आत्मनिरीक्षण करना 284.46 ⇨  
आत्मनिर्भर  
स्वनियोजक 653.34  
स्वावलंबी 648.11  
आत्मनिर्भरता  
स्वनियोजन 653.8  
स्वालंबितता 648.2  
आत्मनिवेदन  
नवधा भक्ति सूची 752.6  
निवेदन 350.1  
आत्मपरिचय पत्र  
आत्मपरिचय पत्र 704.5 ⇨  
आत्मपीडक  
स्वपीडक 391.31  
आत्मपीडन  
स्वपीडन 391.12  
आत्मपीडनोन्माद  
आत्मपीडनोन्माद 353.18 ⇨  
आत्मप्रतिष्ठा भाव  
स्वाभिमान 858.3  
आत्मप्रशंसक  
आत्मप्रशंसक 842.12 ⇨  
आत्मप्रशंसा  
आत्मप्रशंसा 842.1 ⇨  
दर्प 858.5  
परिजल्प 435.12  
आत्मप्रशंसा करना  
आत्मप्रशंसा करना 842.6 ⇨  
आत्मप्रशंसापूर्ण  
आत्मप्रशंसापूर्ण 842.11 ⇨  
आत्मप्रशंसी  
आत्मप्रशंसक 842.12  
आत्मबल  
आत्मविश्वास 487.8  
मनोबल 394.4  
आत्मबलि  
आत्मबलि 754.3 ⇨  
आत्म बलिदान  
आत्मबलि 754.3  
आत्म बलिदान करना  
आत्मबलि देना 754.19  
आत्मबलिदानी  
आत्मबलिदानी 754.23 ⇨  
आत्मबलि देना  
आत्मबलि देना 754.19 ⇨  
आत्मबोध  
आत्मज्ञान 761.4  
आत्मभू  
ईश्वर 764.1  
ब्रह्मा 766.1  
आत्मबंधन  
आत्मविधारण 330.9  
आत्ममानी  
स्वाभिमान 858.11  
आत्ममोह  
आत्ममोह 353.17 ⇨

आत्मयोनि  
ब्रह्मा 766.1  
आत्मरक्षक  
आत्मरक्षक 908.22 ⇨  
आत्मरक्षी  
आत्मरक्षक 908.22  
आत्मरूप  
स्वरूप 967.6  
आत्मलीन  
अंतराभिमुखी 838.14  
आत्मलीन 331.15 ⇨  
आत्मलीनता  
आत्मलीनता 331.7 ⇨  
आत्मलीन होना  
आत्मलीन होना 331.10 ⇨  
आत्मविधारण  
आत्मविधारण 330.9 ⇨  
आत्मविश्वास  
अविघलता 500.5  
आत्मविश्वास 487.8 ⇨  
कर्तृत्ववाद 260.5  
आत्मविश्वासपूर्ण  
उन्नतमस्तक 858.12  
आत्मविश्वासपूर्णता  
उन्नतमस्तकता 858.4  
आत्मविश्वास बाध  
कर्तृत्ववाद 260.5  
आत्मविश्वासहीन  
प्रारब्धवादी 260.29  
विघलनशील 501.12  
आत्मविश्वासहीनता  
प्रारब्धवाद 260.4  
आत्मविश्वासी  
अविघल 500.15  
आत्मविश्वासी 487.26 ⇨  
कर्तृत्ववादी 260.30  
आत्मविस्मरण  
तल्लीनता 331.6  
आत्मविस्मृत  
चेतनाहृत 264.21  
तल्लीन 331.14  
आत्मविस्मृत होना  
तल्लीन होना 331.9  
आत्मविस्मृति  
तल्लीनता 331.6  
आत्मशत्रु  
आत्मद्वेषी 709.8  
आत्मशलाघा  
आत्मप्रशंसा 842.1  
दर्प 858.5  
आत्म संज्ञा  
चेतना 263.4  
आत्मसंभव  
कामदेव 773.12  
ब्रह्मा 766.1  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1

आत्मसंयम  
इंद्रिय निग्रह 364.4  
संयम 808.8  
आत्मसंयमी  
जितेंद्रिय 364.14  
आत्मसमर्पक  
युद्ध समर्पक 916.26  
आत्मसमर्पण  
भक्ति 752.1  
युद्ध समर्पण 916.9  
आत्मसम्मान  
स्वाभिमान 858.3  
आत्मसाक्षात्कार  
आत्मज्ञान 761.4  
आत्मसात् बचन  
आत्मसात् बचन 465.2 ⇨  
आत्मसुखाय  
स्वेच्छार्थ 650.23  
आत्मसुजीविता  
आत्मसुजीविता 170.3 ⇨  
आत्मसुजीविता (त्र)  
आत्मसुजीविता 170.3  
आत्मस्थ  
धैर्यशील 394.15  
निरुद्दिग्न 378.9  
स्थितप्रज्ञ 761.30  
स्थिरचित्त 355.6  
आत्मस्वीकृति  
अपराध स्वीकृति 876.9  
कनकेशन 751.19  
आत्महता  
आत्महता 249.31 ⇨  
आत्महत्या  
आत्महत्या 249.13 ⇨  
आत्महा  
आत्मद्वेषी 709.8  
आत्महता 249.31  
आत्महित  
आत्महित 712.3 ⇨  
आत्मा  
आत्मा 763.1 ⇨  
चेतना 263.4  
जीव 121.4  
प्राण तत्त्व 245.1  
ब्रह्म 764.24  
भूत 766.1  
मन 351.2  
व्यक्तित्व 836.1  
सार 84.16  
स्वरूप 967.6  
आत्मा: आचरण  
आत्मा: आचरण 763.6 ⇨  
आत्मा: आचरण सूची  
आत्मा: आचरण सूची 763.8 ⇨  
आत्मा और ईश्वर एक हैं  
अद्वैतवाद 760.8  
आत्मा और परमात्मा भिन्न हैं  
द्वैतवाद 760.10

आत्मा ठंडी होना  
 तृप्ता होना 361.11  
 आत्माधिक  
 प्रेमपात्र 369 4  
 आत्माधीन  
 स्वाधीन 900.7  
 आत्माधीनता  
 स्वाधीनता 900.1  
 आत्मानंद  
 आत्मानंद 382.5 ⇨  
 आत्मानुभूति  
 अंतर्ज्ञान 761.3  
 आत्मज्ञान 761.4  
 आत्मानुशासन  
 नियम पालन 879 7  
 संयम 808.8  
 आत्मानुशासित  
 सयमित 808.16  
 आत्मानुशास्री  
 नियम पालक 879 20  
 सयमी 808.17  
 आत्मा परमात्मा संबंध विषयक  
 धर्म 735 1  
 आत्मा: पौष आवरण  
 आत्मा: पौष आवरण 763 7 ⇨  
 आत्मा फिर से जन्म लेती है.  
 पुनर्जन्मवाद 760.18  
 आत्माभिमान  
 स्वाभिमान 858.3  
 आत्माभिमानी  
 स्वाभिमानी 858.11  
 आत्माभिमुखता  
 अंतराभिमुखता 838.6  
 आत्माभिमुखी  
 अंतराभिमुखी 838.14  
 आत्मावलंबी  
 स्वायलंबी 648.11  
 आत्मा: वास्तु स्थान  
 शरीर 139.1  
 आत्मा विषयक  
 आत्मा विषयक 763.9 ⇨  
 आत्माशरी  
 मछली 125.1  
 आत्मा: स्वरूप  
 आत्मा: स्वरूप 763.5 ⇨  
 आत्माहीन  
 जड़ 78.23  
 व्याक्तित्वहीन 836.8  
 आत्मिक  
 अशारीरिक 139.12  
 आत्मा विषयक 763.9  
 पारिवारिक 726.13  
 मानसिक 351.8  
 मेरा [मेरी] 316.27  
 आत्मीय  
 आत्मा विषयक 763.9  
 औरस 716.15  
 घनिष्ठ 704.27

निजी (संपत्ति) 624 16  
 पारिवारिक 726.13  
 रिश्तेदार 715.6  
 वैयक्तिक 689.3  
 स्वजनीय 725.5  
 स्वदेशीय 34.20  
 आत्मीय [आत्मीया]  
 मेरा [मेरी] 316.27  
 आत्मीयकरण  
 अंगीकरण 1002.3  
 आत्मीय कर्ता  
 अंगीकारक 1002.24  
 आत्मीयकृत  
 अंगीकृत 1002.23  
 आत्मीय जन  
 स्वजन 725.1  
 आत्मीयता  
 घनिष्ठता 704 13  
 जनन संबंध 716.1  
 परस्परता 703.1  
 पारिवारिकता 726.2  
 मित्रता 705 1  
 रिश्तेदारी 715 5  
 सहोदरता 723 17  
 स्वजन भावना 725.2  
 आत्मीयतापूर्ण  
 मित्रतापूर्ण 705.28  
 स्वजन भावनापूर्ण 725.6  
 आत्मीयताहीन  
 परजन भावनापूर्ण 725 8  
 आत्मीय रूप  
 स्वरूप 987 6  
 आत्मीय व्यवहार  
 परस्परता 703.1  
 आत्मीया  
 स्वकीया नायिका 456.16  
 आत्मोत्सर्ग  
 आत्मबलि 754.3  
 आत्मोद्भव  
 पुत्र 718.3  
 आत्मोद्भवा  
 पुत्री 718.10  
 आत्मोद्भूत  
 स्वयं उत्पन्न 548 10  
 आत्मोद्भूति  
 स्वयं उत्पत्ति 546.6  
 आत्यंतिक  
 अत्यधिक 944.7  
 आत्यंतिकता  
 अत्यधिकता 944.2  
 आश्रेय  
 शिव 767.1  
 आश्रीरक्षण करना  
 अधिकार प्रदान करना 897.12  
 आश्रीरिटी (श्री)  
 प्राधिकरण 692.12  
 आर्षसन  
 वंत प्रहार 918.10

आदग्ध  
 दग्ध 108.13  
 आदग्धक  
 दग्धक 108.15  
 आदत्त  
 आदत्त 836.3 ⇨  
 कुव्यसन 812.7  
 प्रवीणता 303.8  
 आदत्त छोड़ना  
 व्यसन त्यागना 813.8  
 आदत्तन  
 आदत्तन 836.14 ⇨  
 स्वभावतः 836.15  
 आदत्तन से  
 आदत्तन 836 14  
 आदत्त लगना  
 कुव्यसनी होना 812.10  
 आदत्त  
 आदत्त 637.6 ⇨  
 दत्तक 716 20  
 प्राप्त 637.8  
 आदत्त करना  
 आदान करना 637.3  
 आदत्त होना  
 प्राप्त होना 637.4  
 आदम  
 आदम 236.15 ⇨  
 आदम 791.6 ⇨  
 पुरुष 236 12  
 पैगंबर सूची 791 2  
 प्रथम पुरुष: मान्यता सूची 236.14  
 वंश प्रवर्तक 727.7  
 आदमकथ  
 मानवकथा 154.27  
 आदमकौर  
 मनुष्य भक्षी 205.7  
 आदमफ़ाद  
 मानव 128.1  
 आदम: दक्षर्षी पीढ़ी  
 नूह 791.15  
 आदमन  
 स्त्री 236.3  
 आदम: फ़त्नी  
 आदम: फ़त्नी 791.7 ⇨  
 हीवा 236 5  
 आदम हीवा  
 प्रथम स्त्री पुरुष: मान्यता सूची 236.2  
 आदम-हीवा: उपवन  
 बागो अदन 259 3  
 आदमी  
 कर्मचारी 652.27  
 पति 803.5  
 पुरुष 236.12  
 मानव 128.1  
 व्यक्ति 689.1  
 आदमीयत  
 मानव जाति 128.2

आदमी ईवान  
 विपरीतता. उपमान सूची 310.13  
 आदमे सानी  
 नूह 791 15  
 आदर  
 आदर 854.1 ⇨  
 श्रद्धा 340 5  
 आदर करना  
 आदर करना 854.15 ⇨  
 आदरण  
 आदर प्रदान 854.2  
 आदरणीय  
 आदरणीय 854.18 ⇨  
 पूजनीय 751.24  
 महान 839.8  
 श्रद्धेय 340.17  
 आदरणीय [आदरणीया]  
 आदरणीय 854.18  
 पत्रावर: संवेदन आदि सूची 444.41  
 आदरणीयता  
 महानता 839 1  
 आदर देना  
 अलंकृत करना 854 17  
 आदरपूर्ण तुम  
 आप 316.19  
 आदर प्रतिष्ठा  
 मान प्रतिष्ठा 849.1  
 आदर प्रदान  
 आदर प्रदान 854.2 ⇨  
 आदर भाव  
 आदर 854.1  
 आदर सत्कार  
 सत्कार 184.1  
 आदर संहित  
 सत्कारपूर्वक 184.11  
 सम्मानपूर्वक 854.24  
 आदरसूचक शब्द  
 उपाधि 856.1  
 आदरहीन तुम  
 तू 316.18  
 आदर्श  
 अनुकरणीय 505.29  
 अनुकरणीय आदर्श 829.5  
 आदर्श 829.4 ⇨  
 उत्तम 313.13  
 उदाहरण 309.6  
 दर्पण 283.13  
 नमूना 520.13  
 प्रारूप 520.8  
 मानकयुक्त 957.7  
 मानदंड 957.5  
 आदर्श निकषण  
 मानकीकरण 957.2  
 आदर्श निर्धारण  
 मानकीकरण 957.2  
 आदर्शनीय  
 प्रदर्शनीय 285.43

## आदर्श पुरुष

### आदर्श पुरुष

- महापुरुष 839.3  
आदर्श मंदिर  
शीश महल 602.33  
आदर्शवाच  
आदर्शवादिता 829.3  
आदर्शवादहीनता  
आदर्शहीनता 828.4  
आदर्शवादिता  
आदर्शवादिता 829.3 ⇨  
सत्यवादिता 820.11  
आदर्शवादी  
आदर्शवादी 829.10 ⇨  
सत्यवादी 820.22  
आदर्शवादी व्यवहार  
आदर्शवादिता 829.3  
आदर्श व्याख्या  
मानकीकरण 957.2  
आदर्शहीन  
आदर्शहीन 828.11 ⇨  
आदर्शहीनता  
आदर्शहीनता 828.4 ⇨  
आदर्शीकरण  
मानकीकरण 957.2  
आदर्श्य  
प्रदर्शनीय 285.43  
आदर्हन  
दहन 108.1  
आदाता  
आदाता 637.7 ⇨  
दानप्राही 641.25  
आदान  
अंतर्ग्रहण 1002.5  
आदान 637.1 ⇨  
प्राप्ति 637.2  
आदान करना  
आदान करना 637.3 ⇨  
आदान कर्ता  
आयाचक 1055.17  
आदान न करना  
न लेना 639.13  
आदान पत्र  
आयाचन पत्र 1055.6  
आदान प्रदान  
आदान प्रदान 636.1 ⇨  
आदान प्रदान संबंध  
आदान प्रदान संबंध 636.2 ⇨  
आदान मुक्त  
आदान मुक्त 639.23 ⇨  
आदान मुक्त करना  
आदान मुक्त करना 639.14 ⇨  
आदान मुक्ति  
आदान मुक्ति 639.6 ⇨  
आदानित  
आयाचित 1055.16  
आदानी  
आदाता 637.7  
दानप्राही 641.25

### आदाब

- अभिवादन 1060.1  
सम्भीकरण 733.1  
आदाब अर्पण करना  
अभिवादन करना 1060.26  
आदाब करना  
अभिवादन करना 1060.26  
आदाब बजा लाना  
अभिवादन करना 1060.26  
आदाय  
आदेय 634.31  
आदायता  
आदेयता 634.13  
आदायाद  
आदेय 634.31  
आदायी  
आदेयी 634.32  
आदि  
आदिम 63.7  
आरंभ 994.3  
आरंभिक 994.16  
इत्यादि 945.12  
पहला [पहली] 948.85  
-आदि (अकारादि)  
आरंभयुक्त 994.17  
आदि अंत न होना  
आसीम होना 1001.30  
आदिअंतयुक्त  
ससीम 1001.33  
आदिक  
इत्यादि 945.12  
आदि कर्ता  
संस्थापक 693.10  
सृष्टि रचेता 529.5  
आदि कवि  
ब्रह्मा 766.1  
वाल्मीकि 789.19  
आदिकवि  
शुक्राचार्य 789.23  
आदि कारण (वेदांत)  
ब्रह्म 764.24  
आदि कारण (सांख्य)  
मूल प्रकृति 762.2  
आदि कारण अनुमान  
रोग निदान 171.2  
आदि काल  
सृष्टि काल 529.2  
आदि काल से वास्तु  
आदिवास 618.7  
आदिकाव्य  
वाल्मीकि रामायण 770.13  
आदिग्रंथ  
गुरुग्रंथ 740.7  
आदित  
अदिति: पुत्र 787.8  
आदि ताल  
एकताल 458.39

### आदित्य

- अदिति- पुत्र 787.8  
देवता 772.1  
आदित्य  
अदिति: पुत्र 787.8  
अर्यमा 773.2  
आदित्य 773.4 ⇨  
आदित्य 777.1 ⇨  
इंद्र 773.5  
त्वष्टा 773.30  
देवता 772.1  
धाता 773.35  
पूषा 773.37  
बारह: उपमान सूची 948.43  
भग 773.38  
मित्र 773.42  
वरुण 773.43  
वामन अवतार 769.36  
विष्णु 768.1  
वैवस्वत मनु 788.5  
सूर्य 8.1  
आदित्य (दे.)  
आदित्य 773.4  
आदित्य केतु  
अरुण 777.14  
आदित्य: पिता  
आदित्य: पिता 777.2 ⇨  
आदित्य भक्ता  
सुरजमुखी 14.25  
आदित्य: माता  
अदिति 787.7  
आदित्य: माता 777.3 ⇨  
आदित्यवार  
रविवार 46.3  
आदित्य सूनु  
कर्ण 771.47  
सुग्रीव 781.17  
आदिदेव  
ईश्वर 784.1  
नारायण (नर) 764.19  
आदि देव  
विष्णु 768.1  
आदि देवता  
आजान देवता 772.15  
भय 787.28  
शिव 767.1  
आदि दैत्य  
हिरण्य कशिपु 769.25  
आदिनाथ  
ऋषभ देव 792.3  
आदि नारी  
आदम. पत्नी 791.7  
होवा 236.5  
आदि पर्व  
महाभारत: पर्व सूची 771.23  
आदि पुरुष  
नारायण (नर) 764.19  
प्रथम पुरुष 236.13

### मनु 788.1

- वंश प्रवर्तक 727.7  
विराट पुरुष 764.22  
विष्णु 768.1  
संस्थापक 693.10  
स्वायंभुव मनु 788.6  
आदि युद्ध  
बोधिसत्व सूची 793.16  
आदिम  
असम्य 734.14  
आदिम 63.7 ⇨  
आरंभिक 994.16  
पहला [पहली] 948.85  
सुदूर भूल कालीन 36.20  
आदिम (दे.)  
प्रागितिहासिक 76.11  
आदिम अंड  
ब्रह्मांड 1.1  
आदिम अमरीकी जातियाँ  
लाल जाति 730.12  
आदिम आवासी  
पुरा आवासी 618.26  
आदिम काल  
प्रागितिहासिक काल 76.4  
सृष्टि काल 529.2  
आदिम कालीन  
आदिम 63.7  
प्रागितिहासिक 76.11  
आदिम कालीनता  
प्राचीनता 63.1  
आदिम चेतना  
इड 352.4  
आदिमता  
असभ्यता 734.1  
आदिमता 63.2 ⇨  
आदिम बनना  
असम्य बनना 734.11  
आदिम मानव  
आदिम मानव 128.4 ⇨  
आदि मानव  
आदिम मानव 128.4  
आदिमानव  
वानर विकास क्रम 127.94  
आदि रत्न  
शुंगार रत्न 455.20  
आदिराज  
मनु 788.1  
आदि रूप  
आद्य प्रारूप 520.9  
आदिल  
न्याय कर्ता 874.37  
आदि लक्ष्मी  
कामदेवी सूची 774.22  
आदियास  
आदियास 618.7 ⇨  
आदियासी  
आदियासी 618.31 ⇨

आदि शक्ति	आयाचन पत्र 1055.6	आधला	आधानक
दुर्गा 776.7	आदेश पालक	आदिमता 63.2	आधारण कर्ता 1019.19
देवी 774.49	आज्ञा पालक 347.12	प्राचीनता 63.1	डिब्बा 676.1
योग माया 771.82	कर्मचारी 652.27	आद्य ब्राह्मण	स्थित कर्ता 1020.9
आदि सर्ग	आदेश पालन	आद्य प्रारूप 520.9 ⇨	आधान कर्ता
सृष्टि रचना 529.1	आज्ञा पालन 347.6	आद्या	आधारण कर्ता 1019.19
आदि सिद्धांतवादी	आदेशापूर्व	दुर्गा 776.7	आधानन
आदि सिद्धांतवादी 343.20 ⇨	आज्ञात्मक 347.13	प्रतिपदा 44.7	आधारण 1019.5
आदि से अंत तक	आदेशापूर्वक	आद्या देवी	आधान पात्र: भीतर का कुल स्थान
असंक्षिप्ततः 978.8	आज्ञापूर्वक 347.21	प्रथम स्त्री 236.4	आयतन 966.3
आद्योपांततः 940.16	आदेश मुक्त	आद्या नारी	आधान स्थान
आदि से अंत तक संपूर्णता	आज्ञा मुक्त 348.8	आदन: पत्नी 791.7	आधान स्थान 671.17 ⇨
आद्योपांतता 940.7	आदेश मुक्त होना	आद्या शक्ति	आधानित
आदि स्थान	आज्ञा मुक्त होना 348.5	देवी 774.49	आधारित 1019.17
मूल निवास 618.3	आदेश मुक्ति	आद्योपांत	स्थित 1020.8
आदी	आज्ञा मुक्ति 348.3	असंक्षिप्ततः 978.8	आधानित होना
अभ्यस्त 303.19	आदेश वाक्य	आद्योपांत 940.14 ⇨	स्थित होना 1020.6
आदी 836.9 ⇨	विधि निर्देश 514.2	आद्योपांततः 940.16	आधानी
आदीपन	आदेश से	आद्योपांत (दे.)	अलमारी 671.1
अग्न्याधान 107.1	आज्ञापूर्वक 347.21	असंक्षिप्त 978.7	डिब्बा 676.1
दहन 108.1	आदेशात्मक	आद्योपांततः	आधा पूरा
दीप प्रज्वलन 285.4	आज्ञात्मक 347.13	आद्योपांततः 940.16 ⇨	विपरीतता. उपमान सूची 310.13
आदीपन	आदेशानुसार	आद्योपांतता	आधा भरा [आधा भरी]
अग्न्याधानित 107.13	आज्ञानुसारतः 347.22	आद्योपांतता 940.7 ⇨	अर्धरिक्त 1005.8
आदेय	आदेशित	आद्योपांतता (दे.)	आधा भाग
आदेय 634.31 ⇨	आज्ञापित 347.14	असंक्षिप्तता 978.3	अर्धांश 949.18
आदेयता	आयाचित 1055.16	आध	आधा महीना
आदेयता 634.13 ⇨	आदेशिततः	आधा 949.37	मास पक्ष 45.1
आदेय वस्तु: प्रत्यादान	पराधीनतः 901.12	आ धनकना	आधार
उगाही 634.1	आदेशी	सहसा आना 1093.8	आधार 596.1 ⇨
आदेय होना	प्रारब्ध वक्ता 261.43	आधरण	आधार भुजा 968.30
आदेय होना 634.20 ⇨	आदेश्टा	आधार ग्रहण 1019.6	कथा प्रस्तावना 466.13
आदेयी	आज्ञापक 347.15	भाधारण 1019.5	कारण 507.3
आदेयी 634.32 ⇨	आद्यंत	अ.धारण लकड़ी	टेक स्टैंड 596.8
आदेयक	आद्योपांततः 940.16	उंटका 1076.20	तर्क 325.1
क्रीडाप्रिय पुरुष 469.6	आद्यंतता	आधर्ता	निम्नता. उपमान सूची 983.7
आदेयन	आद्योपांतता 940.7	आधारण कर्ता 1019.19	नीचें 607.12
अक्ष घृत 481.3	आद्यंतयुक्त	आध्वर्य	धूमिका 447.8
घृतगृह 481.13	आद्योपांत 940.14	आधारणीय 1019.18	संगीत तर्ज 458.14
आदेश	सस्तीम 1001.33	अध्वः	संबंध 715.1
आज्ञा 347.1	साकार 967.12	अध्व 949.37 ⇨	आधार (दे.)
टेस्टार्मेट 739.10	आद्यंतयुक्तता	आधा साइज़ 961.4	आधारितता 1019.1
डिब्बा 877.17	सस्तीमता 1001.2	आधा [आधी]	आधार एकंक
धर्म आदेश 742.7	साकारता 967.1	अर्ध मात्रिक 946.16	अमीनो अम्ल 179.6
निर्देश 347.4	आद्यंतहीन	अर्धरिक्त 1005.8	आधारक
विधि निर्देश 514.2	अस्तीम 1001.34	आंशिक 939.11	अमीनो अम्ल 179.6
आदेशक	निराकार 967.13	आधा 949.37	आधार कथा
आज्ञापक 347.15	आद्यंतहीनता	आधा अधुना [आधी अधुनी]	पूर्व पीठिका 466.17
आयाचक 1055.17	अस्तीमता 1001.3	असमाप्त (कार्य) 523.6	आधार ग्रहण
आदेश क्षमता: केन्द्र	निराकारता 967.2	आंशिक 939.11	आधार ग्रहण 1019.6 ⇨
अंतरिन्द्रिय 268.4	आद्य	आधा चौद	आधारण
आदेश बाल	आदिम 63.7	अर्ध चंद्रमा 8.6	आधारण 1019.5 ⇨
आज्ञापक 347.15	आरंभिक 994.16	आधा बायरा	आधारण कर्ता
आदेशान	पहला [पहली] 948.85	अर्ध परिधि 972.8	आधारण कर्ता 1019.19 ⇨
निदेशन 347.3	आद्य कवि	आधान	आधारणीय
शासन कर्म 890.3	वाल्मीकि 789.19	गर्भाधान संस्कार 798.4	आधारणीय 1019.18 ⇨
आदेश पत्र	आद्य ज्ञान	स्थितन 1020.3	आधार तंत्र
आज्ञापत्र 347.5	जन्मजात ज्ञान 306.9		शासन तंत्र 890.2

## आधार दाता

आधार दाता  
 आधार दाता 1019.20 ⇨  
 आधार दान  
 आधारण 1019.5  
 आधार दिशा  
 निम्न दिशा 983.2  
 आधार देना  
 धरना 1019.10  
 धारण करना 1019.13  
 आधार धर्म ग्रंथ  
 प्रस्थान त्रयी 740.10  
 आधार पर उत्तर आना  
 धरा जाना 1019.9  
 आधार पर उत्तरना  
 धरना 1019.10  
 आधार पर टिकना  
 धरा जाना 1019.9  
 आधारपूर्ण  
 तथ्यात्मक 820.24  
 तर्कपूर्ण 325.21  
 साधार 1019.15  
 आधारपूर्णता  
 साधारता 1019.3  
 आधार भुजा  
 आधार भुजा 968.30 ⇨  
 त्रिकोण: भुजा सूची 968.29  
 आधारभूत  
 आधारभूत 1019.14 ⇨  
 आधार भूमि  
 भूमिका 447.8  
 आधार भिलना  
 धरा जाना 1019.9  
 आधारयुक्त  
 साधार 1019.15  
 आधारयुक्त अंदाज़  
 आकलन 947.5  
 आधारयुक्तता  
 साधारता 1019.3  
 आधार योग्य  
 आधारणीय 1019.18  
 आधार रेखा  
 आधार भुजा 968.30  
 आधार वाक्य  
 तर्काधार 325.7  
 आधार शिला  
 नीवें: पत्थर 607.13  
 आधार सूची  
 आधार सूची 596.2 ⇨  
 आधार से सम्बन्धित स्थिति  
 खड़ापन 1029.3  
 आधार स्तंभ  
 आधार स्तंभ 607.8 ⇨  
 प्रधान कर्मचारी 852.29  
 आधार स्वर समूह  
 धाट 458.19  
 आधारहीन  
 तथ्यहीन 821.22  
 निराधार 1019.16

आधारहीन अनुमान  
 अटकल 947.3  
 आधारहीनता  
 निराधारता 1019.4  
 आधा रास्ता  
 कार्य मध्य 998.5  
 आधारित  
 आधारित 1019.17 ⇨  
 आधारित करना  
 धरना 1019.10  
 आधारितता  
 आधारितता 1019.1 ⇨  
 आधारित वस्तु  
 आधारित वस्तु 1019.2 ⇨  
 आधारित होना  
 धरा जाना 1019.9  
 आधारार्थ  
 आधारणीय 1019.18  
 आधा सच  
 अर्ध सत्य 821.7  
 आधा साइज़  
 आधा साइज़ 961.4 ⇨  
 आधारशीली  
 आधारशीली 392.7 ⇨  
 आधि  
 पूर्वी 628.9  
 बंधक वस्तु 633.26  
 मनोरोग 354.1  
 मूलधन 633.9  
 रोग 163.1  
 शाप 713.1  
 आधिकारणिक  
 न्यायाधीश 874.15  
 आधिकारिक  
 अधिकार विषयक 897.13  
 शासकीय 890.20  
 आधिकारिक कथा  
 मुख्य कथा 466.10  
 आधिकारिकता:  
 अधिकारपूर्वक 897.20  
 आधिक्य  
 अधिकता 944.1  
 आधिदैविक  
 आध्यात्मिक 761.24  
 दैविक 772.40  
 आधिदैविक दुःख  
 दुःखत्रय सूची 391.6  
 आधि धर्ता  
 बंधक ग्राही 633.19  
 आधिपत्य  
 आधिपत्य 899.8 ⇨  
 आधिपत्य करना  
 आधिपत्य करना 899.19 ⇨  
 आधिपत्य काल  
 प्रहदशा 261.21  
 आधिपत्यधारी  
 आधिपत्यधारी 899.9 ⇨

आधिपत्य में लेना  
 आधिपत्य करना 899.19  
 आधिपत्तीय  
 स्वामित्तीय 621.22  
 आधिपाल  
 बंधक ग्राही 633.19  
 आधिभौतिक  
 जड़ 78.23  
 शारीरिक 139.11  
 आधिभौतिक दुःख  
 दुःखत्रय सूची 391.6  
 आधी उत्र  
 अथेड़ता 232.1  
 आधी गौठ  
 आधी गौठ 572.2 ⇨  
 आधी घरवाली  
 साली 724.39  
 आधी छुट्टी  
 अर्ध अवकाश 494.16  
 आधी बौह: कुरता  
 आधी बौह: कुरता 585.34 ⇨  
 आधी रात  
 मध्य रात्रि 48.11  
 आधुनिक  
 अप्राचीन 64.9  
 आधुनिक 64.7 ⇨  
 वर्तमान कालीन 36.21  
 आधुनिक काल  
 आधुनिक काल 76.9 ⇨  
 आधुनिक कालीनता  
 आधुनिकता 64.1  
 आधुनिकतम  
 आधुनिकतम 64.8 ⇨  
 आधुनिकता  
 आधुनिकता 64.1 ⇨  
 बेपर्दागी 590.12  
 आधुनिकतावादी  
 आधुनिकतावादी 344.6 ⇨  
 आधुनिक युग  
 आधुनिक काल 76.9  
 वर्तमान काल 36.13  
 आधुनिका  
 बेपर्दा 590.19  
 आधुत  
 संघलित 1037.20  
 आधुत  
 आधारित 1019.17  
 आधे में  
 कार्य मध्य में 998.9  
 आधेय  
 आधारित वस्तु 1019.2  
 आधे से न्यून अंश  
 न्यून अंश 939.5  
 आधे से बड़ा भाग  
 अधिक अंश 939.4  
 आध्मात  
 फूला [फूली] 988.13

आध्यात्मिक  
 अशारीरिक 139.12  
 आत्मा विषयक 763.9  
 आध्यात्मिक 761.24 ⇨  
 धर्मशील 735.13  
 आध्यात्मिक गुरु  
 धर्म शिक्षक 742.21  
 आध्यात्मिकता  
 धर्मशीलता 735.2  
 आध्यात्मिक दुःख  
 दुःखत्रय सूची 391.6  
 आध्यान  
 ज्ञान ध्यान 755.1  
 ध्यान 331.1  
 विचारण 330.5  
 आनंद  
 आनंद 382.1 ⇨  
 क्रीड़ा 469.4  
 बुद्ध: शिष्य सूची 793.12  
 मद 211.1  
 मनोरंजन 469.1  
 स्वाद 275.1  
 आनंद (दे.)  
 प्रसन्नता 381.1  
 सुख 390.2  
 आनंद अशु  
 हर्ष: अशु 387.3  
 आनंद आना  
 आनंदित होना 382.11  
 आनंद उड़ाना  
 विलास करना 363.12  
 आनंद उत्सव  
 आनंद मंगल 382.3  
 आनंद कंब  
 आनंदपूर्ण 382.16  
 आनंद कंपन  
 रोमांच 382.6  
 आनंद कंपित  
 अति आनंदित 382.20  
 आनंदक  
 आनंदशील 382.19  
 आनंद क्रीड़ा  
 मनोरंजन 469.1  
 आनंद गद्गद  
 अति आनंदित 382.20  
 आनंदधन  
 आनंदपूर्ण 382.16  
 आनंद जल  
 हर्ष: अशु 387.3  
 आनंद वाक्य  
 आनंदप्रद 382.18  
 आनंदवाक्यकता  
 रोषकता 400.4  
 आनंद ध्वनि  
 आनंद ध्वनि 382.10 ⇨  
 आनंद ध्वनि करना  
 आनंद ध्वनि करना 382.13 ⇨



आनंदः ध्वनि सूची  
 आनंदः ध्वनि सूची 382.25 ⇨  
 आनंदबना  
 आनंदित होना 382.11  
 आनंद घट  
 यशु वस्त्र 802.23  
 आनंदपूर्ण  
 आनंदपूर्ण 382.16 ⇨  
 उत्सवपूर्ण 56.9  
 क्रीडापूर्ण 469.15  
 आनंदपूर्णता  
 आनंदपूर्णता 382.2 ⇨  
 आनंदप्रद  
 आनंदप्रद 382.18 ⇨  
 मनोरंजनपूर्ण 469.11  
 रोचक 400.12  
 स्वादिष्ट 275.20  
 आनंदप्रदता  
 रोचकता 400.4  
 आनंद बधाई  
 मंगल बधाई 841.23  
 आनंद बधावा  
 मंगल बधाई 841.23  
 मंगलोत्सव 796.1  
 आनंद भंग  
 आनंद भंग 383.3 ⇨  
 आनंद भंग होना  
 आनंद भंग होना 383.6 ⇨  
 आनंद शैरव  
 शिव 767.1  
 आनंद शोभी  
 विलासी 363.20  
 आनंद श्रान्ति  
 सुख श्रान्ति 342.2  
 आनंद मंगल  
 आनंद मंगल 382.3 ⇨  
 आनंदवमय  
 आनंदपूर्ण 382.16  
 आनंदवमय कोश  
 आत्मा: आचरण सूची 763.8  
 आनंद मिलना  
 आनंदित होना 382.11  
 आनंद यात्री  
 आमोद यात्री 1085.7  
 आनंद कर्षक  
 आनंदप्रद 382.18  
 आनंदकर्षन  
 आनंदप्रद 382.18  
 आनंदबहाव  
 भोगवाद 760.21  
 आनंद विधोर  
 अति आनंदित 382.20  
 आनंद विध्वंस  
 अति आनंदित 382.20  
 आनंदशील  
 आनंदशील 382.19 ⇨  
 आनंद स्थान  
 सुख धाम 390.4

आनंदहीन  
 अरोचक 401.10  
 अस्वादिष्ट 275.21  
 आनंदहीन 383.10 ⇨  
 आनंदहीनता  
 अरोचकता 401.1  
 आनंदहीनता 383.2 ⇨  
 आनंदवासिरेक  
 अति आनंद 382.4  
 आनंदवानुभूति  
 काव्य रस 455.1  
 रसानुभूति 455.4  
 आनंदवाकु  
 हर्षः अश्रु 387.3  
 आनंदित  
 आनंदित 382.17 ⇨  
 आनंदित (दे.)  
 प्रसन्न 381.7  
 आनंदित होना  
 आनंदित होना 382.11 ⇨  
 आनंदी  
 आनंदशील 382.19  
 विष्णु 768.1  
 आनंदोत्कर्ष  
 अति आनंद 382.4  
 आनंदोत्सव  
 मंगलोत्सव 796.1  
 आनंदोन्मत्त  
 अति आनंदित 382.20  
 आन  
 आन 349.3 ⇨  
 इतर 945.5  
 गौरव 849.4  
 दृढ प्रतिज्ञा 339.18  
 नाज नखरा 860.1  
 परिपाटी 514.9  
 प्रतिज्ञा 339.17  
 हठ 349.4  
 आनक  
 नगाडा 461.58  
 आनक बुंदुभि  
 वसुदेव 771.86  
 आनक बुंदुभी  
 नगाडा 461.58  
 आन करना  
 आन करना 349.8 ⇨  
 आनस्त  
 अवनमित 1025.8  
 नतमस्ताक 733.21  
 आनस्त होना  
 अवनमित होना 1025.8  
 आन स्तन  
 तदक षडक 226.4  
 दर्प 858.5  
 नाज नखरा 860.1  
 बकवास 428.7  
 आनस्ति  
 अंजलिबद्धता 1060.11

अवनमन 1025.3  
 नमन 1060.4  
 आनद्ध  
 आबद्ध 1013.22  
 जुता [जुती] 1079.21  
 नत्थीकृत 417.15  
 मैका [मैदी] 592.19  
 संप्रथित 573.15  
 आनद्धन  
 आबद्धन 1013.1  
 नत्थीकरण 417.13  
 मैकाई 592.7  
 यान जुताई 1079.1  
 संप्रथन 573.1  
 आनद्ध वाद्य  
 आनद्ध वाद्य 461.16 ⇨  
 वाद्ययंत्र: प्रकार सूची 461.12  
 आनन  
 मुख मंडल 140.11  
 मुख विवर 143.1  
 सिर 140.1  
 आनन (जैसे: बशानन)  
 सिरयुक्त 140.23  
 आनन कानन  
 शीघ्रतः 496.13  
 आननहीन  
 सिरहीन 140.24  
 आन बान  
 आन 349.3  
 नाज नखरा 860.1  
 मान प्रतिष्ठा 849.1  
 वैभव 226.5  
 सजघज 226.6  
 आन बान बाला  
 आन बाला 349.13  
 आनमन  
 नमन 1060.4  
 आनम्यता  
 नम्यता 1060.18  
 आनम्यन  
 आनमन 1053.1 ⇨  
 आनमन कर्ता  
 आनमन कर्ता 1053.11 ⇨  
 आनर्त  
 नृत्य 482.3  
 नृत्य शाला 471.8  
 पुट्ट 905.4  
 आनर्तक  
 चक्रणशील 1033.18  
 नर्तक 482.13  
 आनर्तन  
 नर्तन 482.12  
 आनर्त वित्री (जी)  
 प्रवीणता उपाधि 322.27  
 आन बाला  
 आन बाला 349.13 ⇨  
 दृक्प्रतिज्ञा 339.45

आना  
 अंदर होना 999.8  
 आना 629.9 ⇨  
 आना 1093.6 ⇨  
 उत्सव होना 546.8  
 उदित होना 5.26  
 गंतव्य प्राप्त होना 1100.5  
 जन्म लेना 248.8  
 पहुँचना 1053.8  
 प्रवेश करना 1094.17  
 भविष्य होना 67.3  
 लागत आना 644.17  
 सही आकार होना 981.15  
 स्पष्ट होना 822.13  
 आना: 1/2  
 अधत्रा 629.8  
 आना: 1/4  
 पैसा 829.18  
 आना: 2  
 दुअत्री 629.16  
 आना: 4  
 घयत्री 629.11  
 आनाकानी  
 आपत्ति 326.4  
 टालमटोल 495.3  
 बहानेबाज़ी 495.5  
 आनित  
 हनुमान 781.19  
 आनिवेश  
 पूंजी निवेश 628.11  
 आनी जानी  
 नखर 38.7  
 आनी जानी शूष  
 अल्प कालीनता: उक्ति सूची 38.9  
 आनी जानी माया  
 अल्प कालीनता: उक्ति सूची 38.9  
 आनीत  
 आनीत 1053.10 ⇨  
 आनीत [आनीता]  
 पहुँचा [पहुँची] 1053.16  
 आनील  
 हलका नीला 289.51  
 आनुकान  
 आरोह क्रमिक 991.22  
 आनुकामिक  
 क्रमिक 991.21  
 आनुकामिकता  
 क्रमिकता 991.2  
 आनुग्रह  
 अनुगमन 1096.2  
 आनुसिध्य  
 पंचांग शास्त्र 41.8  
 आनुसोधिक  
 प्रेचुरटी 643.30  
 आनुपाधिक  
 पीछा करने वाला 1096.12  
 आनुपातिक  
 आनुपातिक 947.24 ⇨

## आनुपूर्व

सुडील 155 4  
आनुपूर्व  
क्रमिक 991 21  
आनुपूर्वता  
क्रमिकता 991 2  
आनुयोगी  
शिकायत कर्ता 843.27  
आनुलोमिक  
क्रमिक 991.21  
आनुवंशिक  
आनुवंशिक 727.39 ⇨  
दायागत 623 27  
पारंपरिक 795.13  
स्वाभाविक 836 11  
आनुवंशिकता  
आनुवंशिकता 727.17 ⇨  
जनन संबंध 716 1  
पारंपरिकता 795 2  
प्राचीनता 63.1  
आनुवंशिक विवरण  
वंशावली 727 13  
आनुवंशिक शत्रु  
आनुवंशिक शत्रु 706.5 ⇨  
आनुवंशिक शत्रुता  
आनुवंशिक शत्रुता 706.4 ⇨  
आनुवंशिक  
अप्रधान 853.9  
अवसरानुकूल 70 14  
संगत 438.8  
आनुवंशिक कथा  
गौण कथा 466 9  
आनुवंशिकता  
संगतता 438 1  
आनुवंशिक उत्पाद  
गौण उत्पाद 546 2  
आनुवंशिकता  
आकस्मिकता 69 4  
आनुप  
दलदली 25.34  
आनेता  
आनयन कर्ता 1053 11  
आने वाला  
आगतुक 1093.12  
आगामी 1093 13  
भविष्य कालीन 36.22  
आने वाला [आने वाली]  
भविष्य 67.8  
आने वाला दिन  
आगामी कल 46 14  
आने वाले दिनों में  
अनिकट भविष्य में 36 36  
आन्वयिक  
ज्ञातवंश 727.37  
आन्वीक्षिकी  
तर्क शास्त्र 325 17  
आपः  
जल 88.1

आप  
आप 316.19 ⇨  
एकांततः 697.21  
पेय जल 88.7  
में 316.20  
स्वतः कृततः 505.36  
आप आप  
यत्र चालिततः 1046 33  
स्वतः कृततः 505 36  
आप आप करना  
चाटुकारिता करना 841.28  
आप का  
आप का 316.26 ⇨  
पत्रांतः स्तुति आदि सूची 444 42  
आप का नाम  
श्रोता नाम 315.8  
आपगा  
नदी 20.1  
आपट्ट  
काष्ठ पटल 990.6  
आपट्टित  
पटलित 990.31  
आपणिक  
बाजारी 863.20  
सार्थपति 657.14  
आपण्य  
विक्रेय 661 22  
आपतन  
अवपतन 1031.2  
आपतिक  
आकस्मिक 69.10  
प्रारम्भीय 260.26  
आपत्कल्प  
आपात्कालीन आचरण 808.3  
आपति  
आपति 326.4 ⇨  
कष्ट 392 1  
दुर्घटना 188.2  
संकट 909.1  
आपति करना  
आपति करना 326.12 ⇨  
आपतिजनक  
आपतिजनक 326.20 ⇨  
आपति निवारक  
आपति निवारक 326.22 ⇨  
आपति निवारण  
आपति निवारण 326.6 ⇨  
आपति निवारण करना  
आपति निवारण करना 326.13 ⇨  
आपति भिंटाना  
आपति निवारण करना 326.13  
आपतिशील  
संदेहशील 341.10  
आपतिहीन  
आपतिहीन 326.21 ⇨  
आपतिहीनता  
आपतिहीनता 326.5 ⇨

आपदता  
भयानकता 395.7  
आपदा  
कष्ट 392 1  
भौतिक संकट 909.3  
संकट 909.1  
आपदा काल  
संकट काल 909.7  
आपदाग्रस्त  
संकटग्रस्त 909.19  
आपदा निवारण  
संकट मोचन 910.1  
आपदापूर्ण  
संकटात्मक 909.21  
आपदाहीनता  
सुरक्षा 908.4  
आपद्ग्रस्त  
संकटग्रस्त 909 19  
आपद् धर्म  
आपात्कालीन आचरण 808.3  
आपनिक  
किरात जाति 732.5  
आपन्न  
आगत 1093.11  
कष्टग्रस्त 392.21  
घटित 75 11  
व्यतीत 7५.3  
संकटग्रस्त 909.19  
-आपन्न  
सहितः प्रत्यय सूची 1006.5  
आपबीती  
आपबीती 450.17 ⇨  
आपराधिक  
अपराधीय 861.13  
आपराधिक न्यायालय  
आपराधिक न्यायालय 874.6 ⇨  
आपरेट करना  
आपरेशन करना 174 21  
आपरेशन  
आपरेशन 174.3 ⇨  
आपरेशन (अं)  
आपरेशन 174.3  
सैनिक उद्धान 1081.16  
आपरेशन करना  
आपरेशन करना 174.21 ⇨  
आपरेशन कर्ता  
आपरेशन कर्ता 174.24 ⇨  
आपसवारी  
परस्परता 703.1  
रिश्तेदारी 715.5  
स्वजन भावना 725.2  
आपस में  
परस्परतः 703.12  
आपस में निम्नना  
परस्पर निर्वाह होना 703.8  
आपस में पटना  
परस्पर निर्वाह होना 703.8  
मित्र बनना 705.19

आपस वाले  
स्वजन 725.1  
आपसी  
पारस्परिक 703.10  
आपसी भाषा  
कूट भाषा 823.3  
आपसी लड़ाई  
कुटुंब युद्ध 905.15  
गृहयुद्ध 905.16  
आपसी समझ  
परस्पर निर्वाह 703.3  
सहमति 337.3  
सामंजस्य 702 1  
आपसी समझ होना  
सामंजस्य होना 702.4  
आपस अवस्था  
तरल अवस्था 79.4  
आपसत्व  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
आप स्वयं  
में 316.20  
आप ही  
एकांततः 697 21  
आप ही आप  
यत्र चालिततः 1046.33  
स्वतः कृततः 505 36  
आ पहुँचना  
सहसा आना 1093.8  
आपा  
अभिमान 858.1  
अह तत्त्व 351.3  
चेतना 263.4  
बड़ी बहन 723 10  
व्यक्तित्व 836 1  
स्थिरचित्तता 355.2  
आपाआपी  
स्वार्थ साधन 712.6  
आपा खोना  
अति क्रुद्ध होना 373.16  
अभिमान त्यागना 859.5  
चेतना खोना 264.14  
तल्लीन होना 331.9  
मदोन्मत्त होना 211.10  
योगिक होना 1008.20  
आपा डालना  
अभिमान त्यागना 859.5  
आपात  
आकस्मिक पात 1031.4  
आपात विक्रित्ता  
आपात विक्रित्ता 173.5 ⇨  
आपा तजना  
अभिमान त्यागना 859.5  
आपातन  
अवपातन 1031.3  
आपातन (वे.)  
पटकन 1062.20  
आपातकालीन आचरण  
आपातकालीन आचरण 808.3 ⇨

आपाद् धिकिस्ता  
 आपात धिकिस्ता 173.5  
 आपाधापी  
 घोटाला 865.8  
 छीना झपटी 635.8  
 स्वार्थ साधन 712.6  
 आपान  
 पान कर्म 207.1  
 मद्यपान 209.21  
 आपानक  
 मद्यपान गोष्ठी 209.23  
 आपान कर्ता  
 आपान कर्ता 207.20 ⇨  
 आपानन  
 पान कर्म 207.1  
 आपानित  
 आपानित 207.19 ⇨  
 आपा भेटना  
 अभिमान त्यागना 859.5  
 आपिजर  
 स्वर्ण 95.4  
 स्वर्णिम 289.68  
 आपीड  
 मुकुट मणि 584.16  
 आपीडन  
 उत्पीडन 391.10  
 निष्कर्षण 83.1  
 मर्दन 911.1  
 आपीत  
 आपानित 207.19  
 सोनामाखी 92.11  
 आपीन  
 धन 146.10  
 स्थूलकाय 154.29  
 आपूर  
 ऊपर तक भरा 1004.13  
 जलधारा 21.15  
 आपूरण  
 भराई 1004.1  
 आपूर्ण  
 भरा [भरी] 1004.12  
 लदा [लदी] 1081.24  
 आपूर्त  
 आपूर्त 634.33 ⇨  
 आपूर्ति  
 आपूर्ति 634.14 ⇨  
 नौग पूर्ति 658.5  
 आपूर्ति करना  
 आपूर्ति करना 634.21 ⇨  
 आपूर्ति कर्ता  
 आपूर्ति कर्ता 634.34 ⇨  
 आपूब  
 रौंगा 94.13  
 आपूच्छक  
 प्ररन कर्ता 333.24  
 आपूच्छन  
 पूच्छन 333.3

आपूच्छा  
 पूच्छा 333.2  
 आपूच्छित  
 प्ररिनत 333.23  
 आपूच्छराय  
 आपूच्छरायी 1027.18  
 आपूच्छ रायन  
 आपूच्छ रायन 1027.3 ⇨  
 आपूच्छरायी  
 आपूच्छरायी 1027.18 ⇨  
 आपेक्षिक  
 सापेक्ष 309.18  
 आपे में  
 चेतनतः 263.14  
 आपे में आना  
 चेतना लाम होना 263.9  
 आपे में न होना  
 स्थिरचित्त न होना 355.5  
 आपे में होना  
 स्थिरचित्त होना 355.4  
 आपो आप  
 स्वत कृततः 505.36  
 आप्त  
 उपपन्न 328.10  
 गीतम बुद्ध 793.1  
 तर्कपूर्ण 325.21  
 तीर्थकर 792.1  
 पारगत 1097.15  
 प्रदीप 303.22  
 प्रामाणिक 327  
 बुद्धिमान 301.21  
 वास्तविक 820.23  
 विनियोज्य 438.7  
 संगत 438.6  
 आप्तकाम  
 ईश्वर 764.1  
 आप्तगर्भा  
 गर्भवती 241.14  
 आप्तता  
 संगतता 438.1  
 आप्तमान  
 मानदंड 957.5  
 आप्त बचन  
 धर्म उपदेश 742.5  
 आप्त श्रुति  
 वेद 740.22  
 स्मृति ग्रंथ 740.55  
 आप्तगम  
 वेद 740.22  
 स्मृति ग्रंथ 740.55  
 आप्ति  
 उपपत्ति 328.1  
 प्राप्ति 637.2  
 आप्तोक्ति  
 सूत्र वाक्य 424.18  
 आप्य  
 जलीय 86.22

आप्रयास  
 आप्रयासन 618.5  
 आप्रवास करना  
 आप्रवास करना 618.20 ⇨  
 आप्रवासन  
 आप्रयासन 618.5 ⇨  
 आप्रवासी  
 आप्रवासी 618.30 ⇨  
 आप्रवासी होना  
 आप्रवास करना 618.20  
 आप्रवाह  
 प्रवाह 1041.1  
 आप्रविष्ट  
 आप्रवेशित 1002.22  
 आप्रवेश  
 आप्रवेश 1002.2 ⇨  
 आप्रवेश देना  
 आप्रवेश देना 1002.14 ⇨  
 आप्रवेशित  
 आप्रवेशित 1002.22 ⇨  
 आप्ररन  
 पूच्छा 333.2  
 आप्ररनन  
 पूच्छन 333.3  
 आप्ररिनत  
 प्ररिनत 333.23  
 आप्लाव  
 बाढ़ 22.1  
 आप्लावन  
 सिंचन 548.13  
 आप्लावित  
 डूबा [डूबी] 1031.31  
 बाढ़ग्रस्त 22.6  
 सिंचित 548.55  
 आप्लुत  
 डूबा [डूबी] 1031.31  
 आकृत  
 दुःख 391.1  
 संकट 909.1  
 संकटप्रद वस्तु 909.8  
 आकृत का टुकड़ा  
 अति कुटिल 818.8  
 आकृत का परकाला  
 अति कुटिल 818.8  
 आकृत का मारा  
 संकटग्रस्त 909.19  
 आकृत की परकाला  
 संकटप्रद वस्तु 909.8  
 आकृत की पुकिया  
 संकटप्रद वस्तु 909.8  
 आकृत डाना  
 कोलाहल करना 294.18  
 आकृत मचाना  
 कोलाहल करना 294.18  
 आकृत मोल लेना  
 संकट लेना 909.12  
 आकृत तिर पर लेना  
 संकट लेना 909.12

आकृताब  
 सूर्य 8.1  
 आकृताबा  
 टोंटीदार झारी 679.20  
 आकृताबी  
 आतिशबाज़ी सूची 56.6  
 सनरोड 811.28  
 आकृती  
 शाबारी: उद्गार सूची 841.40  
 आकृत्त (अँ)  
 कार्यालय 654.3  
 आकृत्तर (अँ)  
 पदाधिकारी 652.4  
 आबंटक  
 वितरक 656.8  
 आबंटन  
 उत्तराधिकार विभाजन 623.6  
 वितरण 656.7  
 आबंटित  
 वितरित 656.18  
 आबंध  
 जोत रस्सी 555.16  
 आबंधन  
 आबंदन 1013.1  
 आब  
 अरुं 84.13  
 अभ्रु 387.1  
 जल 88.1  
 तेजस्थिता 839.5  
 धार 270.7  
 पुष्प रस 84.6  
 पेय जल 88.7  
 मुलम्मा 292.8  
 रंग आभा 98.3  
 रत्न गुण 98.1  
 आब उत्तरना  
 धुंधलाना 286.13  
 आबकार  
 मद्य निर्माता 209.29  
 आबकारी  
 उत्पन्न कर 647.14  
 मद्य आसवन 82.2  
 आबस्त्रदा  
 सीलनदार 88.29  
 आबस्त्रोरा  
 सेंकरा मुंह: गिलास 684.11  
 आबगीर  
 गड्डा 15.1  
 तालाब 18.10  
 आबगुल  
 गुलाब: अरुं 84.14  
 आबघक  
 आबघक 1063.51 ⇨  
 आबताब  
 चमक दमक 287.23  
 शोभा 226.1

## आबदार

### आबदार

आभायुक्त (रत्न) 98.11  
तीव्र 270.19

### आबदोज

पनडुब्बी 1072.39

### आबद्ध

अनुबंधित 339.32

आबद्ध 1013.22 ⇨

### आबद्धक

अनुबंधकारी 339.33

आबद्ध कर्ता 1013.23

### आबद्ध कर्ता

आबद्ध कर्ता 1013.23 ⇨

### आबद्धता

वैचर्यकता 339.8

### आबद्धन

आबद्धन 1013.1 ⇨

### आबद्धन (वे.)

संलग्नन 1010.1

### आबद्धन उपकरण

आबद्धन उपकरण 1013.7 ⇨

### आबद्ध पत्र

आबद्ध पत्र 339.5 ⇨

### आबनुक्त

काष्ठ सूची 597.2

### आबनुशी

गहरा काला 289.38

### आबपारी

सिचन 548.13

### आबस्त

प्रतिष्ठा 849.2

### आबस्त उत्तारना

अपमानित करना 855.6

### आबस्तदार

प्रतिष्ठित 849.15

### आबस्तरेणी

मानहानि 855.3

### आबला

छाला 167.9

### आबराण

उत्क्रोत 21.1

निर्झर 21.8

### आ बस्तना

आप्रवास करना 618.20

आवासित करना 618.17

### आबहवा

जलवायु 51.1

### आबाद

आवासित 618.23

समृद्ध 826.11

### आबाद करना

आवासित करना 618.17

### आबादी

जन बल संपत्ति 624.13

जनसंख्या 616.8

बस्ती 619.1

### आबिद

पूजक 751.3

### आबिल

दलदली 25.34

### आबी

जलीय 88.22

### आबीजन

आबीजन 118.5 ⇨

### आबू पर्वत

भारत उपमहाद्वीप: पर्वत सूची 17.1

### आबै हयात

अमृत 177.1

जीवन जल 176.9

### आबीदाना

निवास संयोग 616.2

### आबोहवा

जलवायु 51.1

### आबिदिक

वर्षीय 42.27

### आबिदिकी

ईयर बुक 446.18

### आभरण

आभूषण 228.1

नाट्य वेश 464.38

पालन पोषण 720.1

### आभा

अंग दीप्ति 157.6

तेजस्विता 839.5

दीप्ति 287.16

पुट 1008.6

रंग आभा 289.2

रत्न आभा 98.3

रत्न गुण 98.1

सादृश्य आभास 309.4

### आभा मंडल

तेजोमंडल 839.7

प्रकाश मंडल 287.3

### आभा मात्र

पुट मात्र 1008.25

### आभायुक्त (रत्न)

आभायुक्त (रत्न) 98.11 ⇨

### आभास

कृतज्ञता 833.1

भार 963.1

### आभासी

कृतज्ञ 833.6

### आभाषण

वार्तालाप 435.1

संवाद उच्चारण 465.8

### आभास

कथा सूचना 466.15

पुट 1008.6

ग्रन 342.1

ग्रन दर्शन 342.3

रंग झलक 289.4

संकेत 422.4

सादृश्य आभास 309.4

### आभास देना

संकेत करना 422.6

सादृश्य आभास होना 309.12

### आभासित

आलोकित 285.45

विदक्षित 426.32

सादृश्याभासित 309.21

### आभाहीन

अतेजस्वी 839.10

आलोककृत 286.15

धुंधला [धुंधली] 286.17

### आभाहीनता

धुंधलापन 286.8

### आभिजन

वंशीय 727.29

### आभिजात्य

उच्च कुलीनता 728.3

काव्य गुण सूची 453.4

### आभिधानिक

कोशकार 446.16

### आभिधानिकी

कोशकारिता 446.15

### आभिलाषिक

ऐच्छिक 359.17

### आभिव्यंजित

अभिव्यक्त 428.17

### आभीर

राग रागिनी सूची 457.24

### आभुक्त

भक्षित 181.62

### आभूषण

आभूषण 228.1 ⇨

### आभूषणकार

स्वर्ण कर्मी 566.2

### आभूषण ध्वनि

आभूषण ध्वनि 296.7 ⇨

### आभूषण पहनना

अलंकृत होना 227.3

### आभूषण पेश

आभूषण पेश 1016.21 ⇨

### आभूषण बस्त

सुहाग पिटारा 802.6

### आभूषण मंजूषा

आभूषण मंजूषा 676.6 ⇨

### आभूषण लगाना

अलंकृत होना 227.3

### आभूषण व्यापार

आभूषण व्यापार 566.10 ⇨

### आभूषण व्यापारी

आभूषण व्यापारी 566.11 ⇨

### आभूषणहीन

अनलंकृत 227.5

### आभूषणहीनता

अनलंकृतता 227.2

### आभूषित

अलंकृत 227.4

सजा घजा [सजी घजी] 226.13

### आभूषित होना

अलंकृत होना 227.3

### आभोग

उपभोग 524.1

वृत्ति 361.5

भोग 363.1

भोजन कर्म 181.4

सर्ष फण 140.3

### आभोगन

उपभोगन 524.2

### आभोगी

भक्षक 181.53

भोगी 363.15

### आभोग्य

भोग्य 363.14

### आभोजी

भक्षक 181.53

### आभोज्य

आहार्य 197.22

### आभ्यंतरी

अभ्यंतरीय 985.18

भूमिगत नाला नाली 23.7

### आभ्यंतरिक

आंतरिक 999.12

### आभ्यंतरीकता

आंतरिकता 999.2

### आमंडन

अलंकरण 227.1

### आमंडपन

आमंडपन 600.1 ⇨

### आमंडित

अलंकृत 227.4

सजा घजा [सजी घजी] 226.13

### आमंत्र

परामर्श 332.1

### आमंत्रक

निमंत्रण दाता 1056.9

### आमंत्रण

संबोधन 430.10

### आमंत्रणा

परामर्श 332.1

### आमंत्रयिता

निमंत्रण दाता 1056.9

### आमंत्रित

निमंत्रित 1056.7

### आम

अगुप्त 822.28

आम 190.8 ⇨

आम वृक्ष 13.5

काष्ठ सूची 597.2

खाद्य फल सूची 190.2

ख्यात 847.3

गौरवहीन 850.6

नगर वृक्ष सूची 13.2

सर्व संज्ञात 441.21

सहज (भाषा) 421.33

सामान्य 311.3

सामूहिक 690.13

### आम आदमी

साधारण जन 728.12

### आमक

पारसी इमशान 254.15

आम खबर मुनादी 441.11	आम रास्ता सार्वजनिक मार्ग 1083.8	आमी कच्चा आम 190.9	आमोदप्रमोदहीनता मनोरंजनहीनता 489.3
आमख्वास जनानख्वास 614.20 दरबारे खास 695 10	आमलक आँवला 189.6	आमीन आमीन 741.32 ⇨ एवमस्तु 710.30	आमोदप्रिय विनोदी 385.13
आम चुनाव आम निर्वाचन 888 2	आमला आँवला 189.6	आमीलन मुकुलन 120.1	आमोद भ्रमण आमोद यात्रा 1085.6
आम जलसा जन सभा 694 2	आमलेट आमलेट 206.9 ⇨	आमुक्त प्रक्षेपित 1052 19	आमोद यात्रा आमोद यात्रा 1085.6 ⇨
आम तीर पर प्रायः 73 7	आमलेट (अँ) आमलेट 206 9	आमुख पूर्व पीठिका 466.17 भूमिका 447.8	आमोद यात्रा करना आमोद यात्रा करना 1085 11 ⇨
आम तीर पर होना परिपाटी होना 514.12	आम लोग साधारण जन 728 12	आमुदित आनंदित 382.17	आमोद यात्री आमोद यात्री 1085.7 ⇨
आमद आगमन 1093 1 आयक 1054 8 गतव्य प्राप्ति 1100 3 जमा प्रविष्टि 632 7 प्राप्ति 637 2	आमवात सधियात 163.23	आमुल पूर्ण परिवर्तन 532.8	आमोद वन क्रीडा उपवन 12.14
आमदनी आय 643 1 लाभ 646 2	आम वृक्ष आम वृक्ष 13 5 ⇨	आमूलन आमूलन 117.5 ⇨	आमोद विहार आमोद यात्रा 1085.6
आमदरप्रत यातायात 1067 1	आम वृक्ष (दे.) आम 190 8	आमूलन आमूलन 117.5 ⇨	आमोदित प्रसन्न 381.7 सुगंधित 274.31
आमना सामना अभिमुखता 1023 1 आमना सामना 915.3 ⇨	आम सहमति सर्व सहमति 337 4	आमूलन पूर्ण परिवर्तन 532.8	आमोदी विनोदी 385.13
आमना सामना होना आमना सामना होना 915 9 ⇨	आम सूची आम सूची 190 10 ⇨	आमूलित आमूलित 117.21 ⇨	आम्नात उल्लिखित 437 13 पुन स्मृत 356.26 सूक्ति 434 2
आम निर्वाचन आम निर्वाचन 888 2 ⇨	आमातिसार अतिसार 216 14	-आमेज़ सहित प्रत्यय सूची 1006 5	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
आमने सामने अभिमुखता 1023 15 आमने सामने 915 13 ⇨ विरुद्धतः 886 8	आमादगी उद्यतता 491 3	आमेलक सम्मिश्रक 1008 27	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
आम पापड़ आम पापड़ 203.52 ⇨	आमादा उद्यत 491.15 युद्धेच्छुक 907.41	आमेलन मिलाई 389.2 सम्मिश्रण 1008.12	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
आमफ्रहम सहज (भाषा) 421.33	आमादाय उदर 148 6	आमोचक आमोचक 1015.11 ⇨	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
आमफ्रहम जवान सहज भाषा 421 23	आमिल कार्यकर्ता 506 9 कार्यान्वय कर्ता 505.28 भूत निवारण कर्ता 759.9 शासक 890.5 साधक 303.21 सिद्ध साधु 790.30	आमोचन आमोचन 1015.2 ⇨ प्राक्षेपण 1052 2	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
आम बीमा आम बीमा 631.18 ⇨	आमिश्र सम्मिश्रित 1008.26	आमोचन आमोचन 1015.2 ⇨ प्राक्षेपण 1052 2	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
आमय रोग 163 1	आमिश्रण सम्मिश्रण 1008 12	आमोचन आमोचन 1015.2 ⇨ प्राक्षेपण 1052 2	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
आमरण आयु पर्यंत 229 28	आमिष सम्मिश्रित 1008.26	आमोचन आमोचन 1015.2 ⇨ प्राक्षेपण 1052 2	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
आमरण अनशन आमरण भूख हड़ताल 902 13	आमिश्रण सम्मिश्रण 1008 12	आमोचन आमोचन 1015.2 ⇨ प्राक्षेपण 1052 2	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
आमरण भूख हड़ताल आमरण भूख हड़ताल 902.13 ⇨	आमिष खाद्य मांस 206.11 भोग लिप्सा 363.4 भोग्य वस्तु 363.3 मांस 132.1 रिश्वत 885.9 सामिष 205.3	आमोचन आमोचन 1015.2 ⇨ प्राक्षेपण 1052 2	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
आमरण सौभाग्य अखंड सुहाग 803.12	आमिष आहार सामिष आहार 205.2	आमोचन आमोचन 1015.2 ⇨ प्राक्षेपण 1052 2	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
आमरस पाचव्य 129.7	आमिषता सामिषता 205 1	आमोचन आमोचन 1015.2 ⇨ प्राक्षेपण 1052 2	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
आम राय सर्व सहमति 337.4	आमिषाहारी सामिषाहारी 205.4	आमोचन आमोचन 1015.2 ⇨ प्राक्षेपण 1052 2	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22
	आमी आमीन 741.32	आमोचन आमोचन 1015.2 ⇨ प्राक्षेपण 1052 2	आम्नाय अविस्मरणीय 356.20 आनुवंशिकता 727.17 परंपरा 795.1 वंश 727.1 वेद 740.22

## आयतन

आयत 969.5 ⇨  
 इसलामी पूजा गीत सूची 749.27  
 बृहत 979 15  
 विस्तीर्ण 981.10  
**आयतन**  
 आयतन 966.3 ⇨  
 गृह 601 1  
 तीन आयाम 964 9  
 देव मंदिर 745 30  
 धारण क्षमता 966 4  
 यज्ञ स्थान 753.17  
 यान शरीर 1076 1  
**आयतनता**  
 त्रिआयामता 964.11  
**आयतन पात्रः भार**  
 वाहिन भार 959 59  
**आयतन माप**  
 आयतन माप 959 44 ⇨  
**आयतन मापी**  
 आयतन मापी पात्र 959 57  
**आयतन मापी पात्र**  
 आयतन मापी पात्र 959.57 ⇨  
**आयतन मापी पात्र सूची**  
 आयतन मापी पात्र सूची 959.58 ⇨  
**आयतनिक**  
 त्रिआयामीय 964 24  
**आयतनीय**  
 त्रिआयामीय 964 24  
**आयताकार**  
 आयताकार 969.15 ⇨  
**आयताकार वर्ग**  
 वर्ग आकृति 969 6  
**आयति**  
 क्षेत्रफल 966 1  
 धारण क्षमता 966 4  
 विस्तार 981.2  
**आयत्त**  
 आघारित 1019 17  
**आयद**  
 घटित 75 11  
 विनियोज्य 438 7  
**आयद होना**  
 विनियोज्य होना 438 4  
**आयन बायु**  
 समुद्र समीर 85 18  
**आयन (अँ)**  
 इस्तिरी 220 20  
 ठीहा 596 12  
 लोहा 93.7  
**आय व्ययः आकलन**  
 बजट 647.38  
**आयव्ययक**  
 बजट 647.38  
**आय व्ययः वार्षिक विवरण**  
 बैलेंस शीट 632.2  
**आयस**  
 धात्व्रीय 93.16  
 लोहा 93.7

लीह 93 17  
 आय साधन  
 आजीविका 650 1  
**आयहीन**  
 अनर्जक 649 9  
**आया**  
 अथवा 945 13  
 क्या 316 2  
 परिचारिका 651.29  
**आया [आई]**  
 आगत 1093 11  
 आसन्न 67 10  
 गतव्यप्राप्त 1100 6  
 प्रविष्ट 1094 24  
**आया गया**  
 अतिथि 183 16  
**आयाचक**  
 आयाचक 1055 17 ⇨  
**आयाचन**  
 आयाचन 1055 5 ⇨  
**आयाचन पत्र**  
 आयाचन पत्र 1055 6 ⇨  
**आयाचना**  
 अनुरोध 350 6  
**आयाचित**  
 अनुरोधित 350 19  
 आयाचित 1055 16 ⇨  
**आयाचित करना**  
 आयाचित करना 1055.8 ⇨  
**आयातक**  
 आयातक 657.9 ⇨  
**आयात कर्ता**  
 आयातक 657.9  
**आयात निर्यात**  
 आयात निर्यात व्यापार 657.8  
**आयात निर्यात व्यापार**  
 आयात निर्यात व्यापार 657.8 ⇨  
**आयान**  
 आगमन 1093 1  
**आयाम**  
 आयाम 964 1 ⇨  
 पार्श्व 997 1  
**आयामस्व**  
 आयामयुक्तता 964 2  
**आयामयुक्त**  
 आयामयुक्त 964.20 ⇨  
 साकार 967.12  
**आयामयुक्तता**  
 आयामयुक्तता 964.2 ⇨  
 साकारता 967.1  
**आयाम विषयक**  
 आयामीय 964 19  
**आयामहीन**  
 आयामहीन 964.21 ⇨  
 निराकार 967.13  
**आयामहीनता**  
 आयामहीनता 964.3 ⇨  
 निराकारता 967.2

**आयामहीन प्रकल्प**  
 विंदु 968 1  
**आयामी**  
 आयामयुक्त 964 20  
**आयामीय**  
 आयामीय 964.19 ⇨  
**आयाराम गयाराम**  
 दल बदलू 885.20  
**आयास**  
 प्रयत्न 489 1  
**आयासपूर्वक**  
 परिश्रमपूर्वक 493.14  
**आयासहीन**  
 अपरिश्रमी 490 11  
**आयासहीनतः**  
 अप्रयत्नतः 490.15  
**आयासित**  
 प्रयत्नित 489 8  
**आयासी**  
 प्रयत्नशील 489 9  
**आयु**  
 आयु 229 1 ⇨  
 वय 229 11  
**आयु काल**  
 आयु 229 1  
**आयुक्त**  
 नियुक्त 653 32  
**आयुक्त अधिकारी**  
 आयुक्त अधिकारी 652 7 ⇨  
**आयु गणना**  
 ग्रहदाय 261 24  
**आयु ढलना**  
 वृद्ध होना 232 7  
**आयुध**  
 आयुध 922.1 ⇨  
**आयुधजीवी**  
 आयुधजीवी 922.11 ⇨  
 सैनिक 934 1  
**आयुध तस्कर**  
 आयुध तस्कर 864.39 ⇨  
**आयुध निर्माण**  
 शस्त्र निर्माण 929 1  
**आयुध निर्माणी**  
 शस्त्र निर्माण शाला 929.2  
**आयुध पूजन**  
 दशहरा 57.9  
**आयुध शाला**  
 शस्त्रागार 929 3  
**आयुधहीन**  
 शस्त्रहीन 930 7  
**आयुधागार**  
 शस्त्रागार 929.3  
**आयुधिक**  
 आयुधीय 922.10  
 सैनिक 934.1  
**आयुधी**  
 सैनिक 934.1

**आयुधीय**  
 आयुधीय 922.10 ⇨  
**आयु पर्यत**  
 आयु पर्यत 229.28 ⇨  
**आयु प्राप्त**  
 दीर्घायु 229 19  
**आयु योग**  
 संभावित आयु 229.2  
**आयुर्द्रव्य**  
 औषध 176 1  
**आयुर्वेद**  
 आयुर्वेद 740 37 ⇨  
 वैद्यक 172 5  
**आयुर्वेदः आठ अंग**  
 आयुर्वेदः आठ अंग 172 6 ⇨  
**आयुर्वेदः आठ अंग सूची**  
 आयुर्वेदः आठ अंग सूची 172.7 ⇨  
**आयुर्वेदिक चिकित्सक**  
 वैद्य 172 8  
**आयुर्वेदिक चिकित्सा**  
 वैद्यक 172 5  
**आयुष्काम**  
 दीर्घायुष्काम 229 20  
**आयुष्कामना**  
 दीर्घायुष्काम कामना 229 8  
**आयुष्कामी [आयुष्कामिनी]**  
 दीर्घायुष्काम 229.20  
**आयुष्टोम**  
 दीर्घायु यज्ञ 229 9  
**आयुष्टोम यज्ञ**  
 यज्ञ सूची 753 2  
**आयुष्पति**  
 शिव 767 1  
**आयुष्मान**  
 दीर्घायु 229 19  
**आयुष्मान [आयुष्मती]**  
 दीर्घायु 229 19  
**आयुष्य**  
 आयु 229.1  
 दीर्घ आयु 229.6  
 दीर्घायु यज्ञ 229.9  
**आयुष्यता**  
 दीर्घायुता 229.7  
**आयु संभावना**  
 ग्रहदाय 261.24  
 संभावित आयु 229.2  
**आयुष्य (प्र)**  
 ऐनजाइम 179.7  
**आयोग**  
 आयोग 692.9 ⇨  
 कार्यन्वयन 505.5  
**आयोग अध्यक्ष**  
 आयोग अध्यक्ष 692.10 ⇨  
**आयोजक**  
 आयोजक 655.19 ⇨  
 संयोजक 893.15  
**आयोजन**  
 आयोजन 655.3 ⇨

उद्योग 557.3  
 योजना निर्माण 520.2  
 व्यवस्था 893.5  
 संयोजन 1010.10  
 समारोह 894.15  
 प्रायोजन (दे.)  
 संयोजन 893.4  
 प्रायोजन करना  
 आयोजित करना 655.13  
 प्रायोजन में  
 आयोजन में 655.25 ⇨  
 प्रायोजना  
 योजना 520.1  
 प्रायोजित  
 आयोजित 655.18 ⇨  
 क्रमिक 991.21  
 योजित 520.17  
 व्यवस्थित 893.13  
 प्रायोजित करना  
 आयोजित करना 655.13 ⇨  
 प्रायोडीन नमक  
 आयोडीन नमक 279.4 ⇨  
 प्रारंजक  
 प्रारंजक 291.11 ⇨  
 आरजन कर्मी 291.12  
 प्रभावशाली 511.17  
 प्रारंजकता  
 प्रभावशालिता 511.2  
 प्रारंजन  
 प्रारंजन 291.1 ⇨  
 प्रारंजन कर्मी  
 प्रारंजन कर्मी 291.12 ⇨  
 प्रारंजित  
 प्रारंजित 291.14 ⇨  
 प्रभावित 511.13  
 प्रारंजित करना  
 प्रारंजित करना 291.7 ⇨  
 प्रारंजित होना  
 प्रारंजित होना 291.6 ⇨  
 प्रारंपार  
 प्रारंपार 998.5 ⇨  
 प्रारंपारता  
 प्रारंपारता 998.1 ⇨  
 प्रारंपार होना  
 प्रारंपार होना 998.2 ⇨  
 प्रारंभ  
 प्रवर्तित 693.13  
 प्रारंभ  
 प्रारंभ 994.3 ⇨  
 उत्क्रांत 21.1  
 कार्य प्रारंभ 521.1  
 नींद रखाई 599.23  
 मंगलाचरण 485.7  
 रचना कर्म 527.1  
 सभा प्रारंभ 694.22  
 सीमाप्रारंभ 1001.18  
 सृष्टि रचना 529.1

प्रारंभ अंत  
 प्रारंभ अंत 994.1 ⇨  
 प्रारंभ-अंत: जीवन काल  
 आयु 229.1  
 प्रारंभ-अव: जीवन काल  
 वय 229.11  
 प्रारंभक  
 प्रारंभ कर्ता 521.7  
 प्रवर्तक 693.14  
 प्रारंभ करना  
 प्रारंभ करना 994.11 ⇨  
 कार्य प्रारंभ करना 521.5  
 प्रवर्तित करना 693.7  
 संस्थापित करना 693.5  
 प्रारंभ कर्ता  
 प्रारंभ कर्ता 521.7 ⇨  
 प्रवर्तक 693.14  
 प्रारंभ काल  
 सृष्टि काल 529.2  
 प्रारंभ गीत  
 मंगलारंभ गीत 796.13  
 प्रारंभण  
 प्रारंभण 994.4 ⇨  
 प्रवर्तन 693.3  
 प्रारंभतः  
 प्रारंभतः 994.21 ⇨  
 प्रारंभ निष्पत्ति (कौटिल्य)  
 उत्पादन लागत 644.8  
 प्रारंभ में  
 प्रारंभ में 994.20 ⇨  
 प्रारंभयुक्त  
 प्रारंभयुक्त 994.17 ⇨  
 प्रारंभ संकेत सूची  
 प्रारंभ संकेत सूची 521.8 ⇨  
 प्रारंभ समानि  
 प्रारंभ अंत 994.1  
 प्रारंभ सूचना  
 अध्याय. प्रारंभ सूचना 447.4  
 प्रारंभ से अंत क्रम  
 आरोह क्रम 991.3  
 प्रारंभ से अंत तक  
 असंक्षिप्ततः 978.8  
 आद्योपांततः 940.16  
 आरोह क्रमिक 991.22  
 प्रारंभहीन  
 असीम 1001.34  
 प्रारंभहीन 37.8 ⇨  
 प्रारंभहीनता  
 प्रारंभहीनता 37.2 ⇨  
 प्रारंभ होना  
 प्रारंभ होना 994.10 ⇨  
 प्रारंभता  
 आद्योपांतता 940.7  
 प्रारंभिक  
 आदिम 63.7  
 प्रारंभिक 994.16 ⇨  
 उदीयमान 5.29

प्रारंभिक अंतिम  
 प्रारंभिक अंतिम 994.14 ⇨  
 प्रारंभिक अभ्यास  
 प्रारंभिक अभ्यास 303.6 ⇨  
 प्रारंभिक अर्ध  
 पूर्वार्ध 447.11  
 प्रारंभिक अवस्था सूची  
 प्रारंभिक अवस्था सूची 994.23 ⇨  
 प्रारंभिक क्रियाकलाप  
 उपक्रम 521.4  
 प्रारंभिक चिकित्सा  
 तत्काल चिकित्सा 173.6  
 प्रारंभिक छंद  
 गीत. प्रारंभिक भाग 451.24  
 प्रारंभिक ज्ञान  
 प्रारंभिक ज्ञान 994.5 ⇨  
 प्रारंभिकता  
 आदिमता 63.2  
 प्रारंभिक धुन  
 प्रारंभिक संगीत 457.7  
 प्रारंभिक योजना  
 परिकल्पना 520.5  
 प्रारंभिक रूप  
 अपरिवर्तित रूप 533.3  
 प्रारंभिक लक्षण  
 प्रारंभिक लक्षण 317.6 ⇨  
 प्रारंभिक लक्षणयुक्त  
 प्रारंभिक लक्षणयुक्त 317.23 ⇨  
 प्रारंभिक संगीत  
 प्रारंभिक संगीत 457.7 ⇨  
 प्रारंभिक सायंकाल  
 गोधुनि बेला 47.12  
 प्रारंभिक स्वर  
 ग्रह स्वर 459.19  
 तोमनोम 458.18  
 प्रारंभित  
 प्रारंभित 521.6 ⇨  
 गत्वरित 1046.21  
 प्रवर्तित 693.13  
 प्रारंभित होना  
 प्रारंभ होना 994.10  
 प्रारंभीय  
 प्रारंभिक 994.16  
 प्रार  
 कच्चा लोहा 93.8  
 प्रार (अं)  
 ऐर 959.39  
 प्रारऐसवीपी (अं)  
 पत्रोत्तर अपेक्षा 444.40  
 प्रारकाटी  
 प्रवासी श्रमिक दलाल 650.5  
 प्रारकेन्द्रा (अं)  
 वाद्य समूह 461.7  
 प्रारक्त  
 हलका लाल 289.62  
 प्रारक्षक  
 पहरेदार 908.9  
 पुलिस 886.1

रक्षक 908.20  
 सरक्षक 908.26  
 प्रारक्षण  
 क्रय प्रारक्षण 660.11  
 पुलिस कर्म 886.2  
 प्रारक्षा  
 सरक्षा 908.3  
 प्रारक्षित  
 प्रारक्षित 660.20 ⇨  
 रक्षित 908.19  
 प्रारक्षित करना  
 प्रारक्षित करना 660.15 ⇨  
 प्रारक्षित क्रय  
 प्रारक्षित क्रय 660.10 ⇨  
 प्रारक्षी  
 पुलिस कर्मी 886.3  
 सरक्षक 908.26  
 प्रारग्वध  
 अमलतास 13.3  
 प्रारजू  
 इच्छा 359.1  
 लालसा 359.5  
 प्रारजूमंद  
 इच्छुक 359.21  
 लालसी 359.29  
 प्रारटीओ (अं)  
 यातायात विभाग 1067.8  
 प्रारण्य  
 वय 12.1  
 वन्य 12.36  
 प्रारण्यक  
 प्रारण्यक 740.19 ⇨  
 वनवासी 616.21  
 वन्य 12.36  
 प्रारण्यक: अंतिम भाग  
 वेदांत 740.44  
 प्रारत  
 तल्लीन 331.14  
 प्रारता  
 प्रारता 800.4 ⇨  
 आरती 749.28  
 आरती बंदन 1059.17  
 वधु स्वागत 800.41  
 वर स्वागत 800.46  
 प्रारति  
 प्रारति 751.1  
 प्रसूति 502.1  
 प्रसन्नता 381.1  
 प्रसन्न 381.2  
 प्रारति बंधना  
 पूजा 751.1  
 प्रारती  
 प्रारता 800.4  
 प्रारती 749.28 ⇨  
 प्रारती गीत 749.29  
 प्रारती बंधन 1059.17  
 पूजा गीत सूची 749.28

## आरती उतारना

**आरती उतारना**  
आरती करना 749 44  
स्वागत करना 1059 23  
**आरती करना**  
आरती करना 749 44 ⇨  
**आरती गीत**  
आरती गीत 749 29 ⇨  
**आरती दीपक**  
मंदिर दीपक 285 14  
**आरती लेना**  
आरती लेना 749 45 ⇨  
**आरती वंदन**  
आरती 749 28  
आरती वंदन 1059 17 ⇨  
**आरपार**  
आरपार 998 5  
आरपार 1097.23 ⇨  
**आर पार**  
ओर छोर 1000 1  
**आरपार छिद्र**  
आरपार छिद्र 271 9 ⇨  
**आरपार छिद्रण**  
आरपार छिद्रण 271 5 ⇨  
**आरपारता**  
आरपारता 998 1  
**आरपार होना**  
आरपार होना 998 2  
**आरबिट्रेटर (अँ)**  
विवाचक पंच 877 7  
**आरबिट्रेशन निर्णय**  
विवाचन पचाट 877 8  
**आरब्ध**  
आरभित 521 6  
**आरब्धक**  
आरभ कर्ता 521 7  
**आरब्धन**  
आरंभण 994 4  
**आरब्धा**  
प्रवर्तक 693 14  
**आरभट**  
वीर पुरुष 396 2  
साहस 394 1  
**आरभटी**  
साहस 394 1  
**आरमपार**  
आरपार 998.5  
**आरमाडा (अँ)**  
नीसैनिक बेड़ा 1072.52  
**आरब**  
कोलाहल 294 8  
थिल्लाहट 373 8  
ध्वनि 294 1  
**आरसी**  
दर्पण 283 13  
दर्पण लगी अँगूठी 228 3  
**आरा**  
आरा 559.2 ⇨  
गरारी दौता 1077 38

**आराकरा**  
आराकरा 564.2 ⇨  
**आराकरशी**  
आराकरशी 584 1 ⇨  
**आराकाटी**  
कर्णधार 1080.19  
**आरा गति**  
आरा गति 1035.2 ⇨  
**आरा चलाना**  
आरा चलाना 564.9 ⇨  
**आरात्रिक**  
मंदिर दीपक 285 14  
**आराधक**  
पूजक 751 3  
प्रेमी 368.2  
**आराधन**  
पूजन 751.2  
प्रशंसन 841 4  
प्रसन्न 381 2  
रसोई कर्म 195 6  
**आराधना**  
पूजा 751.1  
**आराधना करना**  
पूजा करना 751.22  
**आराधनीय**  
पूजनीय 751 24  
प्रशंसनीय 841 30  
**आराधिका**  
पुजारिन 744 8  
**आराधित**  
पूजित 751 23  
**आराध्य**  
पूजनीय 751 24  
प्रशंसनीय 841 30  
**आराध्य देवता**  
इष्ट देवता 772.23  
**आराध्य देवी**  
इष्ट देवी 774 3  
**आराम**  
अपरिश्रम 490 3  
आश्रम 745 2  
उपवन 12.11  
बौद्ध मठ 745.12  
राहत 171.12  
विश्राम 494.1  
विश्राम काल 494.2  
सुख 390 2  
सुविधा 518.3  
**आराम (शब्दार्थ)**  
नूह 791.15  
**आराम की नींद सोना**  
मरना 249.18  
**आराम कुरसी**  
आराम कुरसी 595.24 ⇨  
**आरामगाह**  
विश्राम स्थल 1090.19  
शयन कक्ष 614.21

**आराम तलब**  
विश्राम प्रेमी 490.12  
शियलिंगामी 1045.14  
**आराम तलबी**  
विश्राम प्रेम 490.4  
**आरामदान**  
पानदान 213.28  
**आरामदेह**  
गद्देदार 593 67  
विश्रामप्रद 494.22  
**आराम पसंद**  
विश्राम प्रेमी 490 12  
**आराम पसंदी**  
विश्राम प्रेम 490 4  
**आराम से**  
आलस्यपूर्वक 490.16  
विलंबतः 495 16  
शियल गति से 1045.17  
**आरामिक**  
उपवन कर्मी 12.28  
**आराय**  
आवाहन 1055.1  
**आरिज**  
कपोल 140.15  
**आरी**  
आरी 559.3 ⇨  
कौरखव 126.19  
**आरुक**  
आरुक 190.7  
आलू बुखारा 191 3  
**आरुच**  
रुच 374.17  
**आरुह**  
आरुह 1082.29 ⇨  
ऊर्ध्वगत 1030 23  
सत्तारुह 899.25  
**आरुहि**  
आरोहण 1082.1  
**आरुप (प्र)**  
प्राकृ 520 8  
**आरुपण**  
गढ़ाई 545.4  
**आरुपित**  
गढ़ा [गढ़ी] 545.27  
**आरुह**  
ऊर्ध्वगामी 1030.24  
**आरुह**  
झाड़िग चित्र 404.15  
**आरोग्य जीविता**  
सुजीविता 170.2  
**आरोग्यता**  
स्वस्थता 161.3  
**आरोग्यपूर्ण**  
स्वस्थ 161.5  
**आरोग्यप्रद**  
स्वास्थ्यप्रद 161.6  
**आरोग्यप्रवता**  
स्वास्थ्यप्रदता 161.4

**आरोग्य प्रदान**  
चिकित्सन 171.8  
**आरोग्य लाभ**  
आरोग्य लाभ 171.11 ⇨  
**आरोग्य लाभ होना**  
आरोग्य लाभ होना 171.17 ⇨  
**आरोग्य शाला**  
अस्पताल 175 5  
सैनेटोरियम 175.4  
**आरोग्यहर**  
स्वास्थ्यहर 162 6  
**आरोग्य हरण**  
स्वास्थ्य हरण 162.2  
**आरोग्योन्मुख**  
आरोग्योन्मुख 171 22 ⇨  
**आरोध**  
घेराबंदी 914.11  
**आरोप**  
आरोप 875 7 ⇨  
भ्रम 342.1  
लांछन 843 7  
शिकायत 843.12  
**आरोपक**  
आरोप कर्ता 875.9  
**आरोप कर्ता**  
आरोप कर्ता 875.9 ⇨  
**आरोपप्रस्त**  
आरोपित 875.25  
**आरोपण**  
रोपण 548.8  
**आरोप पत्र**  
आरोप पत्र 875 8 ⇨  
**आरोप लगना**  
आरोप लगना 875.21 ⇨  
**आरोप लगाना**  
आरोप लगाना 875.22 ⇨  
**आरोपवाद**  
हिंदी काव्य सिद्धांत सूची 453.11  
**आरोपित**  
आरोपित 875.25 ⇨  
**आरोपित करना**  
आरोप लगाना 875.22  
**आरोपी**  
आरोप कर्ता 875.9  
**आरोह**  
आरोह 458.3 ⇨  
ऊर्ध्वगमन 1030.3  
चढ़ान 988.3  
**आरोह अवरोह**  
आरोह अवरोह 458.1 ⇨  
उत्थान पतन 1035.10  
तरंग गति 1035.6  
**आरोह अवरोह क्रम**  
आरोह अवरोह क्रम 458.2 ⇨  
लय 458.22  
स्वर संक्रम 460.14  
**आरोह अवरोह शील**  
आरोह अवरोह शील 458.54 ⇨



आरोह अवरोह हीन समतल 986 9	छतदार मार्ग 1063.24	धनीय 628 23	आर्य और निषाद पद्यजन 731 5
आरोह अवरोह होना	आर्गनाइज़र (अँ)	यिस्तीय 633 32	आर्यक कुलीन पुरुष 728 6
आरोह अवरोह होना 458.52 ⇨	आयोजक 655 19	आर्थिक बेईमान 816.6 ⇨	दादा 722.5
आरोहक	आयोजना (अँ)	आर्थिक बेईमानी 816.3 ⇨	परदादा 722.7
आरोही 1082 2	सस्था 692 1	आर्थिक शोषण 627 10 ⇨	आर्यका कुलीन स्त्री 728 7
आरोह क्रम	आर्गनिक कैमिकल्स (अँ)	आर्थिक सहायता	आर्य जाति 732 1 ⇨
आरोह क्रम 991.3 ⇨	कार्बनिक रसायन 87 3	वित्तीय सहायता 633 2	श्वेत जाति 730 7
आरोह क्रमशः	आर्जय	आर्थी 426 26	आर्य जातीय 732.14 ⇨
आरोहतः 991 29	छलहीनता 815 3	आर्द्र 88 27 ⇨	आर्य देश उत्तर भारत 28 3
आरोह क्रम से	आर्जुनि	दयाद्र 834 14	आर्यपत्नी यजमान पत्नी 743 7
आरोहत 991.29	अभिमन्यु 771.35	द्रवित 80 6	आर्य पुरुष 732 2 ⇨
आरोह क्रमिक	आर्ट (अँ)	वर्षद 54 23	आर्य भाषा संस्कृत भाषा 421 6
आरोह क्रमिक 991.22 ⇨	चित्रकला 404 23	सीलनदार 88 29	आर्यव ईमानदारी 815 2
आरोहण	हस्त शिल्प 557 9	आर्द्रक अदरक 278 2	सम्प्रीकरण 733 1
आरोहण 1082.1 ⇨	आर्ट गैलरी (अँ)	आर्द्र करना 88 19 ⇨	आर्य वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था 731 1
आरोहण करना	चित्र दीर्घा 471 21	आर्द्रज साठ 281 35	आर्यवाद नात्सीवाद 884 34
आरोहित होना 1082 25	चित्रशाला 669 12	आर्द्रण 88.17 ⇨	आर्यवृत धर्मशील 735 13
आरोहण पशु	आर्टपीस (अँ)	भिगोई 220 16	आर्य समाज 737.33 ⇨
आरोहण पशु सवारी पशु 127 4	कलाकृति 397 20	आर्द्रता 88 16 ⇨	आर्य स्त्री 732 3
आरोहणिका	आर्ट सेंटर (अँ)	आर्द्रता माप 958 38 ⇨	आर्या 452.9 ⇨
ऐलिक्टर 613 12	चित्रशाला 669 12	आर्द्रता मापी 958 39 ⇨	कुलीन स्त्री 728 7
आरोहणी	आर्टिक्ल (अँ)	आर्द्रता मापी अर्द्रता मापी 958 39 ⇨	पायती 776 9
लिफ्ट 613 13	लेख 449 17	आर्द्रतारुद्ध जलरुद्ध 89 12	सास 724 7
आरोहतः	आर्टिलरी (अँ)	आर्द्रता रोधन जल रोधन 89 5	स्त्री उपाधि सूची 856 4
आरोहत 991 29 ⇨	तोप गाड़ी 1070 18	आर्द्रय विश्वेदेव सूची 177 10	आर्या छंद आर्या 452 9
आरोहणील	आर्टिस्ट (अँ)	आर्द्रा नक्षत्र सूची 4 6	आर्यावर्त उत्तर भारत 28.3
आरोही 458 55	कलाकार 397 16	आर्द्रा विद्ययन 877 6	आर्यावर्त उत्तर भारतीय 28.75
आरोहित	आर्टिफिशियल सैटलाइट (अँ)	आर्द्राकारक 89 12	आर्यावर्त अष्टांग मार्ग 737 13
ऊर्ध्वगत 1030 23	कृत्रिम उपग्रह 1075 12	आर्द्रा कवचित यान 921 13	आर्ष 789 27 ⇨
आरोहित होना	आर्द्र (अँ)	आर्द्रा थल सेना 932 15	ऋषि विषयक 789 26
आरोहित होना 1082 25 ⇨	आज्ञा 347 1	आर्द्रा अदरणीय 854 18	प्राचीन 63.6
आरोही	आयचन पत्र 1055 6	आर्द्रा आर्य जाति 732 1	वेदीय 740.62
आरूढ 1082 29	आयचन पत्र 1055 6	आर्द्रा आर्य जातीय 732 14	आर्ष विवाह 799.21 ⇨
आरोही 1082 2 ⇨	आर्किनेस (अँ)	आर्द्रा आर्य पुरुष 732 2	आर्षेय ऋषि विषयक 789 26
आरोही 458 55 ⇨	अध्यादेश 878 5	आर्द्रा पुरुष उपाधि सूची 856.2	
ऊर्ध्वगामी 1030 24	आर्त	बौद्ध धर्मावलंबी 737 7	
संगीत वर्ण सूची 459 24	उत्पीडित 391 28	यज्ञपति 753 4	
मार्क	कच्छप्रस्त 392.21	श्वेत जाति 730 7	
सूर्यीय 8.9	दुःखी 391 24	ससुर 724 6	
मार्क (अँ)	आर्तनाद		
चाप 972 9	आर्तनाद 386 3 ⇨		
मार्कग्रीस्ट (अँ)	आर्तनाद करना 386.17 ⇨		
बिषय 744.34	आर्तनाद करना 386.17 ⇨		
मार्कबिषय (अँ)	आर्तनाद कर्ता 386.30 ⇨		
बिषय 744.34	आर्तनाद कर्ता 386.30		
मार्कग्रीस्ट (अँ)	आर्तनादी		
अभिलेखागार 669 10	आर्तनाद कर्ता 386.30		
मार्कग्रीस्ट	आर्तबंधु		
उपवन पुष्प सूची 14.2	संकट मोचक 910 10		
मार्कपेलागो (अँ)	आर्तब		
द्वीपावली 26.3	ऋतु कालीन 51 16		
मार्कयोस्लावी (अँ)	रज 130 9		
पुरातत्त्व 77.1	रजीय 130.12		
मार्कविस्ट (अँ)	आर्तब उन्माद		
अभिलेख पाल 889.11	चंद्रोन्माद 354.6		
मार्कड (अँ)	आर्तवी		
छतदार बाजार 663 3	रजस्वला 130 13		
	आर्थिक		
	अर्थीय 426 26		

## आर्हत

### आर्हत

तीर्थकारीय 792.7  
**आलंकारिक**  
 दिखावटी 825 5  
**आलंकारिक भाषा**  
 अलंकृत भाषा 421 21  
**आलंग**  
 सलग्न 1010 18  
**आलंब**  
 आधार 596.1  
 पैडुलम 50.28  
 प्रलंबित 1024 10  
 लीवर टेक 1062 4  
**आलंबक**  
 प्रलंबक 1024 12  
 लीवर टेक 1062 4  
**आलंबन**  
 आधार भुजा 968 30  
 इन्द्रियार्थ 268 9  
 कारण 507 3  
 प्रलंबन 1024.1  
 शरण 910 4  
**आलंबनशील**  
 प्रलंबित 1024 10  
**आलंबनहीन**  
 अनाथ 719 5  
 निराधार 1019 16  
**आलंबनहीनता**  
 निराधारता 1019 4  
**आलंबित**  
 आधारित 1019 17  
 प्रलंबित 1024 10  
**आलंबी**  
 प्रलंबित 1024.10  
**आलंबन**  
 पकड़ 868.3  
**आल इंडिया रेडियो (अं)**  
 आकाश वाणी 472.33  
**आलओवर प्रिंट (अं)**  
 जामावार 578.11  
**आल औलाद**  
 संतान समष्टि 718 2  
**आलकस**  
 आलस्य 490.5  
**आलक्षक**  
 प्रेक्षक 284 26  
**आलक्षण**  
 धिस्नन 407 2  
 प्रेक्षण 284 25  
**आलक्षी**  
 प्रेक्षक 284 26  
**आ लगना**  
 गंतव्य प्राप्त होना 1100 5  
**आलजाल**  
 बकवासपूर्ण 428 25  
**आलजित**  
 लज्जित 845.10

### आलता

महावर 225 32  
**आलम्बी पालम्बी**  
 पालथी 1028.7  
**आलन**  
 आलन 201.25 ⇨  
**आलन लगाना**  
 चीकना 195.48  
**आलपिन**  
 आलपिन 417 5 ⇨  
**आलपिन कुशन**  
 आलपिन कुशन 417.6 ⇨  
**आलपीन**  
 आलपिन 417 5  
**आलबाल**  
 संतान समष्टि 718.2  
**आलब्य**  
 अजित 648 8  
 उपलब्ध 943 9  
 प्रतिलब्ध 863 8  
 सुलभ 943.10  
**आलब्यता**  
 उपलब्धता 943.1  
 सुलभता 943.2  
**आलब्यन**  
 आदान 637 1  
**आलब्या**  
 खोजी 336 25  
 प्राप्ता 637 9  
**आलब्धि**  
 उपपत्ति 328.1  
 उपलब्धता 943.1  
 परिणाम प्राप्ति 510.2  
 प्रतिलब्धि 863.3  
 प्राप्ति 637.2  
 बोध प्राप्ति 301.11  
 लाभ 646 2  
**आलभ्यता**  
 उपलब्धता 943.1  
**आलम**  
 अव्यवस्थित समूह 690 4  
 परिस्थिति 69 5  
 ब्रह्मांड 1 1  
**आलमारी**  
 अलमारी 671.1  
**आलनी**  
 ब्रह्मांडीय 1 15  
**आलय**  
 आधार 596 1  
 आला 671.18  
 कमरा 614.1  
 गृह 601 1  
 भंडार 670.3  
 भंडार घर 670.5  
 भवन 602 7  
 संग्रहालय 669.8  
**आलयी**  
 गृहीय 601 13

### आलक

श्वानोन्माद 354 13  
**आलयाल**  
 थाला 551.23  
**आलस**  
 आलस्य 490.5  
**आलस से**  
 आलस्यपूर्वक 490.16  
**आलसी**  
 अप्रयत्नशील 490 9  
 आलसी 490.14 ⇨  
 कामघोर 490.10  
 टालू 495.14  
**आलसी [आलसन]**  
 आलसी 490.14  
**आलसीपन**  
 आलस्य 490.5  
**आलस्य**  
 अप्रयत्न 490.1  
 आलस्य 490.5 ⇨  
 विलंब 495.1  
**आलस्य करना**  
 आलस्य करना 490.8 ⇨  
**आलस्यपूर्वक**  
 आलस्यपूर्वक 490.16 ⇨  
**आलस्ययुक्त**  
 अलसाया / [अलसाई] 490.13  
**आलस्यहीन**  
 आलस्यहीन 493.12 ⇨  
**आलस्यहीनतः**  
 आलस्यहीनतः 493.16 ⇨  
**आला**  
 आदरणीय 854.18  
 आधार स्थान 671.17  
 आला 671.18 ⇨  
 उच्च 982.7  
 उत्तम 313.13  
 उपकरण 558.7  
 ताजा [ताजी] 197.43  
 मट्टा 109.9  
 महान 839 8  
 मेहराब 611.29  
 वयोवृद्ध 232.11  
 सर्वगुण संपन्न 313.17  
**आला आक्षर**  
 उच्च पदाधिकारी 652.6  
**आलात**  
 अंगारा 106 12  
**आलाते जंग**  
 आयुध 922.1  
**आलान**  
 गला. जंजीर 555.13  
 बेड़ी 668.25  
**आलाप**  
 अनुलाप 435.9  
 आलाप 458.5 ⇨  
 तरत्रुम 460.22  
 नाटक संवाद 465.1

वार्तालाप 435.1  
**आलापक**  
 आलापक 458.57 ⇨  
 गायक 460.17  
**आलापचारी**  
 आलापन 458.6  
**आलापन**  
 आलापन 458.6 ⇨  
**आलापना**  
 अनुलाप करना 435.21  
 गाना 460.43  
**आलापयुक्त गायन शैली**  
 बोलताना 458.17  
**आलाप सैना**  
 आलाप लेना 458.53 ⇨  
**आलापी**  
 आलापक 458.57  
 वार्तालाप कर्ता 435.24  
**आलाबू**  
 तूबा 461 57  
**आलारासी**  
 अलमस्त 382.23  
 निरिधत 378 8  
**आलिंगन**  
 आलिंगन 237.8 ⇨  
 आलिंगन करना  
 आलिंगन करना 237.12 ⇨  
 आलिंगन कर्ता  
 आलिंगन कर्ता 237.18 ⇨  
 आलिंगजर  
 बड़ा घड़ा 679.3  
 सुराही 679.15  
**आलि**  
 भ्रमर 122.33  
**आलिखित**  
 धित्रांकित 404.36  
 लिपिबद्ध 412.44  
**आलिप्त**  
 आलेपित 292.13  
 आसक्त 365.5  
 तल्लीन 331.14  
 तल्लीन 331.14  
 प्रेमासक्त 368.21  
 संसिक्त 1008.29  
**आलिप्तता**  
 प्रेमासक्ति 368.8  
**आलिप्ता**  
 योग लिप्ता 363.4  
 लालसा 359.5  
**आलिप्यु**  
 भोगलिप्यु 363.17  
**आलिम**  
 नीलवी 744.24  
 विद्य 318.4  
 विद्वान 319.8  
**आलिम क्राजिल**  
 पूर्णविद्य 318.5

- आली**  
उच्च 982.7  
उत्तम 313.13  
वंश 727.1  
स्त्री मित्र 705.3
- आली खानदान**  
उच्च कुलीन 728.15
- आलीजाह**  
उच्च पदाधिकारी 652.6
- आलीह**  
घाटा [घाटी] 181.67
- आलीन**  
आलेपित 292.13
- आलीनक**  
सीसा 94.14
- आलीशान**  
महान 839.8  
वैभवशाली 226.15
- आलुघन**  
केश लुघन 798.19  
लुघन 1017.3
- आलुब्ध**  
लुब्ध 359.30
- आलुब्धन**  
आलुभन 359.7
- आलुभन**  
आलुभन 359.7 ⇨
- आलुलित**  
तरंगित 1040.30
- आलू**  
आलू 189.7 ⇨  
साग सक्की सूची 189.4
- आलू गाजर जैसा कंद**  
कंद 111.10
- आलू गोदाम**  
कोल्ड स्टोरेज 670.19
- आलूचा**  
आलूचा 190.11 ⇨  
खाद्य फल सूची 190.2
- आलू बुझारा**  
आलू बुझारा 191.3 ⇨  
मेवा सूची 191.2
- आलेख**  
अभिलेख 412.18  
आलेख 412.17 ⇨  
उत्कीर्ण लेख 406.25  
पत्र 444.1  
पुरालेख 77.7  
प्रालेख 520.10  
हस्तलेख 412.6
- आलेखन**  
चित्रांकन 404.24  
लिपिबद्धन 412.2
- आलेखनी**  
तुलिका 404.33  
पैसिल 416.8
- आलेखितता**  
लिपिबद्धता 412.3
- आलेख्य**  
घीसठ कला सूची 397.4
- आलेख्य देवता**  
देवता चित्र 404.3
- आलेप**  
आलेप 292.1 ⇨  
पलस्तर 599.27  
मरहम 176.21  
लेप 176.24
- आलेपक**  
आलेपक 292.12 ⇨
- आलेप करणा**  
लीपना 292.11
- आलेपन**  
अंग रजन 225.4  
आलेपन 292.3 ⇨
- आलेपन (दे.)**  
पुताई 291.4
- आलेपन करणा**  
लीपना 292.11
- आलेपित**  
अंग रजित 225.39  
आलेपित 292.13 ⇨
- आलेपित होना**  
लिपना 292.10
- आलों वाली अलमारी**  
खानो वाली अलमारी 671.4
- आलोक**  
ज्ञान 305.1  
ज्ञान प्रकाश 305.3  
प्रकाश 287.1
- आलोकक**  
आलोकक 285.46 ⇨
- आलोक चित्र**  
फोटो 405.1
- आलोकन**  
अवलोकन 284.1  
आलोकन 285.2 ⇨  
रलेजिंग 218.11
- आलोकनीय**  
दर्शनीय 400.13
- आलोक बहाना**  
आलोक बहाना 285.41 ⇨
- आलोक वर्धन**  
आलोक वर्धन 285.5 ⇨
- आलोक बर्धित**  
आलोक बर्धित 285.47 ⇨
- आलोक हरण**  
आलोक हरण 286.9 ⇨
- आलोक हरना**  
आलोक हरना 286.11 ⇨
- आलोकहीन**  
अज्ञानपूर्ण 306.11
- आलोकहृत**  
आलोकहृत 286.15 ⇨
- आलोक होना**  
आलोक होना 285.37 ⇨
- आलोकित**  
अवलोकित 284.47  
आलोकित 285.45 ⇨
- आलोकित करणा**  
आलोकित करणा 285.39 ⇨
- आलोकित होना**  
आलोकित होना 285.38 ⇨
- आलोचक**  
दोषदर्शी 843.25  
निंदक 843.22  
समीक्षक 398.5
- आलोचन**  
अवलोकन 284.1  
विवेचन 427.14
- आलोचना**  
कला समीक्षा 398.3  
दोष दर्शन 843.9
- आलोचन**  
मथन 554.12
- आलोचना**  
मथन करणा 554.21
- आलोकितता**  
तरंगितता 1040.16
- आलोभन**  
आलोभन 359.8 ⇨
- आल्टर**  
आल्टर 745.22 ⇨
- आल्टर (अँ)**  
आल्टर 745.22  
बलिवेदी 754.5  
वेदी 745.45
- आल्टरनेट (अँ)**  
एकांतर संख्यक 949.28
- आल्टरनेट नंबर (अँ)**  
एकांतर संख्या 949.7
- आल्टरनेटिंग करंट**  
आल्टरनेटिंग करंट 102.3 ⇨
- आल्टरनेटिंग करंट (अँ)**  
आल्टरनेटिंग करंट 102.3
- आम्नाइटी (अँ)**  
गौर 764.14
- आल्हा**  
आल्हा 457.29 ⇨  
वीर काव्य 451.14
- आयधन**  
अभिनंदन 854.8  
नमस्कार 1060.12
- आयक**  
आयक 1054.8 ⇨  
आयक पत्र 1054.9
- आयक पत्र**  
आयक पत्र 1054.9 ⇨
- आयक**  
आयक मूर्ति 406.4
- आयक प्रतिमा**  
आयक मूर्ति 406.4
- आयक मूर्ति**  
आयक मूर्ति 406.4 ⇨
- आयक**  
आयक 1063.51
- आवती**  
आयक 1054.8
- आवधिक उन्माद**  
घट्टोन्माद 354.6
- आयन**  
आगमन 1093.1
- आवभगत**  
सत्कार 184.1
- आवभगत के साथ**  
सत्कारपूर्वक 184.11
- आवर**  
सहित प्रत्यय सूची 1006.5
- आवरक**  
अबरी 415.11  
आच्छाद 593.1  
आच्छादन कला 592.14
- आवर रत्नास (अँ)**  
रेतघड़ी 50.18
- आवरण**  
अवगुठन 591.2  
आरछाद 593.1  
आच्छादन 592.1  
आच्छादन 592.1  
आत्मा आवरण 763.6  
आवरण पृष्ठ 447.24  
उत्तल सूची 985.21  
ओढ़न 592.2  
गिलाफ 675.5  
गोपन 824.1  
घूँघट 591.3  
घादर 593.17  
छद्म 824.9  
छद्म आवरण 824.10  
ढाल 921.1  
त्वचा 134.1  
परदा 605.6  
परिधान 583.1  
पिधान 675.3  
पिधानन 675.1  
पुस्तक आवरण 418.6  
प्रच्छन्न 824.8  
यस्त्राच्छाद 593.2  
व्याप्ति 981.5
- आवरण उतारणा**  
अपिधानित करणा 675.18
- आवरण करणा**  
आच्छादित करणा 592.8
- आवरण पट**  
परदा 605.6
- आवरणपूर्ण**  
छद्मपूर्ण 824.27
- आवरण पृष्ठ**  
आवरण पृष्ठ 447.24 ⇨  
कवर पेज 418.7
- आवरणहीन**  
अनावृत 822.29

## आवरणहीनता

### आवरणहीनता

प्रकटता 822 8  
बेपर्दगी 590.12

### आवरणहीना

बेपरदा 590 19

### आयरिका

छोटी दुकान 662 2

### आयरित

आच्छादित 592 13

### आयरिता

आच्छादन कर्ता 592 14

### आवरी

आगमन 1093 1

### आयर्णित

आरजित 291 14

### आवर्त

एक चक्रावृत्ति 1033 13

परिक्रमा 1033 3

भँवर 1040 24

माक्षिक धातु 92 9

लाजवर्द 96 26

### आवर्तक

चक्रणशील 1033 18

घक्रायक 1033 19

### आवर्तन

अनुशीलन 321 25

धातु सगलन 565 11

धुवी चक्रण 1033 1

परिधि चक्रण 1033 2

पुनरावृत्ति 73 1

पृथ्वी आवर्तन 5 1

### आवर्तन काल

आवर्तन काल 5 2 ⇨

### आवर्तन बिंदु

चक्रण बिंदु 1033 8

### आवर्तनशील

आवृत्तिशील 71 9

### आवर्तनशीलता

नियमितता 71 2

### आवर्तनशील स्वर समूह

राग परिचायक स्वर समूह 459 2

### आवर्तनी

कलछी 681 5

चम्पच 681 16

### आवर्त मणि

लाजवर्द 96 26

### आवर्तायन

परिक्रामण 1033 11

### आयर्णित

आवृत्तिशील 71 9

चक्रित 1033 17

पुनरावर्तित 73 4

### आयर्णिता

नियमितता 71 2

### आवर्तितता: वर्ष 12

कुम्भ उत्सव 57 3

### आवर्तितता: वर्ष 6

अर्थ कुम्भ 57 4

### आवर्ती

आवृत्तिशील 71 9

घक्रावृत्तिशील 71 12

आवर्ती जमा खाता

आवर्ती जमा खाता 631.6 ⇨

### आवर्धक

बृहत्कर्ता 979 16

### आवर्धन

बृहदीकरण 979 2

### आवर्धित

बृहत 979 15

### आवश्यक

अनिवार्य 919 9

अवश्यकभायी 68 15

आवश्यक 524.20 ⇨

महत्त्वपूर्ण 852 8

दैवश्यकतापूर्ण 339 36

शीघ्र करणीय 496.10

### आवश्यकता

आवश्यकता 524 7 ⇨

प्रयोजन 508 1

मॉग 656 1

### आवश्यकता अनुभूति

आवश्यकता अनुभूति 524 8 ⇨

### आवश्यकता ग्रन्थ

आवश्यकता ग्रन्थ 524.21 ⇨

### आवश्यकतानुकूल

आवश्यकतानुकूल 524.22 ⇨

पर्याप्त 941 6

### आवश्यकतानुकूलता

पर्याप्तता 941 1

### आवश्यकतानुरूप

पर्याप्त 941 6

### आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुकूल 524 22

### आवश्यकता पूर्ति

मॉग पूर्ति 656.5

### आवश्यकता से कम

अपर्याप्त 942 17

### आवश्यकता होना

मॉग होना 656 13

### आवश्यक साधन

आवश्यक साधन 558 4 ⇨

### आवश्यक सामग्री

साज सामान 558 6

### आवश्यक होना

अपेक्षित होना 359 11

आवश्यक होना 524.13 ⇨

### आवश्यक

छात्रावास 321.17

### आवश्यक

अस्थायी वास 618 10

### आवह

वायु सूची 85 2

### आव्य

कुम्हार भट्ठी 109.12

### आवागमन

आवागमन चक्र 246 3

यातायात 1067 1

### आवागमन ग्रन्थ

आवागमन ग्रन्थ 246.12 ⇨

### आवागमनग्रन्थ होना

आवागमनग्रन्थ होना 246.9 ⇨

### आवागमन चक्र

आवागमन चक्र 246.3 ⇨

### आवागमन चक्र (दे.)

इहलोक 258.11

### आवागमन लोक

इहलोक 258 11

### आवागमनशील

आवागमन ग्रन्थ 246.12

### आवागमनहीनता

मोक्ष 257.1

### आवाज़

आंदोलन: नारा 902 9

आवाहन 1055 1

आहट 297 1

### आवाज़

ध्वनि 294.1

### आवाज़

फुरियाद 350 9

याचा 299.1

सबोधन 430 10

स्वर भंगिमा 299 4

### आवाज़ का लौटना

प्रतिध्वनि होना 294 16

### आवाज़ खुलना

मुखर होना 428 10

### आवाज़ देना

आवाहन करना 1055 7

### आवाज़ न निकल पाना

स्वर बैठना 299 20

### आवाज़ लगाना

आवाहन करना 1055 7

### आवाजाही

यातायात 1067 1

### आवापन

छितराव 668.8

बिखराव 668 1

बुआई 548 7

### आयाम

जनता 883 5

### आवारगी

आयारागदी 1090.3

आवासहीनता 617 1

दिशाहीनता 1099 3

### आयारा

अनाथ 719 5

अपालतू 127 96

आयारागदी 1090 43

आवासहीन 617 11

उद्देश्यहीन 509 4

गुंडा 811 7

घलिष्णु 1090 42

दिशाहीन 1099.11

लावारिस (जानवर) 127 97

घ्यभिचारी 806.10

### आयारागदी

आयारागदी 1090.43 ⇨

दिशाहीन 1099 11

### आयारागदी

आयारागदी 1090.3 ⇨

### आयारागदी करना

आयारागदी करना 1090.39 ⇨

### आयाल

थाला 551 23

### आवास

गृह 601 1

निवासिता 616 1

### आवास अधिकार

आवास अधिकार 622.E ⇨

### आवास अधिकारी

आवास अधिकारी 622.7 ⇨

### आवास आधिपत्य

आवास आधिपत्य 622 8 ⇨

### आवास आधिपत्यधारी

आवास आधिपत्यधारी 622 9 ⇨

### आवासक

आयासी 618 25

### आवास चौक

आवास चौक 619 4 ⇨

### आवास-त्याग

निरावासन 617 4

### आवासध

लीजिंग हाउस 1090 32

### आवास देवता

गृह देवता 772 25

### आवासन

आवासन 618 1 ⇨

सुगंधन 274.2

### आवास पंक्ति

आवास समूह 619 3

### आवास योग्य

आवास योग्य 618.24 ⇨

### आवास संयोग

निवास संयोग 616 2

### आवास समूह

आवास समूह 619.3 ⇨

### आवास स्वामी

आवास स्वामी 621 21 ⇨

### आवास स्वामी [आवास स्वामिनी]

आवास स्वामी 621 21

### आवासहीन

आवासहीन 617 11 ⇨

### आवासहीनता

आवासहीनता 617.1 ⇨

### आयासिक

आयासी 883.7

आयासीय 618.22

### आयासिकता

आयासिता 883.3

### आवासित

आवासित 618 23 ⇨

सुगंधित 274.31

**आवासित करना**  
*आवासित करना* 618.17 ⇨  
**आवासितता**  
*आवासितता* 616.6 ⇨  
**आवासित देश**  
 उपनिवेश 881 11  
**आवासित न करना**  
 निवासी न होना 617.8  
**आवासित न होना**  
*आवासित न होना* 617.9 ⇨  
**आवासिता**  
*आवासिता* 883 3 ⇨  
 निवासिता 616.1  
**आवासी**  
*आवासी* 883 7 ⇨  
*आवासी* 618 25 ⇨  
 निवासी 616 13  
**आवासीय**  
*आवासीय* 618 22 ⇨  
 गृहीय 601 13  
**आवासीय भूखंड**  
*आवासीय भूखंड* 598 3 ⇨  
**आवासीय सेवक**  
*आवासीय सेवक* 651 4 ⇨  
**आवासीय सेविका**  
*आवासीय सेविका* 651 5 ⇨  
**आवास्य**  
 आवास योग्य 618 24  
**आवाहक**  
 आयाचक 1055 17  
 आवाहन कर्ता 1055 10  
 निमंत्रण दाता 1056 9  
**आवाहन**  
 आयाघन 1055 5  
*आवाहन* 1055 1 ⇨  
 उद्बोधन 499 3  
 चुनौती 917 1  
 मंत्रावाहन 1055 2  
 ललकार 373 14  
 षोडशोपचार सूची 750 4  
**आवाहन (दे.)**  
 निमंत्रण 1056 1  
**आवाहन करना**  
*आवाहन करना* 1055 7 ⇨  
 चुनौती देना 917 4  
 निमंत्रित करना 1056 5  
**आवाहन कर्ता**  
*आवाहन कर्ता* 1055 10 ⇨  
**आवाहन: घंटी**  
*आवाहन: घंटी* 461.32 ⇨  
**आवाहित**  
 आयाधित 1055 16  
*आवाहित* 1055 11 ⇨  
 निमंत्रित 1056 7  
 मंत्रावाहित 1055 13  
**आधिक**  
 ऊनी 568 16

**आधिद**  
 अंतर्वेधित 271.22  
**आधिर्भाव**  
 अयतरण 769 2  
 उत्पत्ति 546.5  
 जन्म 248 1  
**आधिर्भूत**  
 अयतरित 769 42  
 उत्पन्न 546 9  
 जन्मा [जन्मी] 248 10  
**आधिर्भूल**  
 उन्मूलित 548 57  
**आधिर्भूलन**  
 उन्मूलन 548 28  
**आधिर्होत्र**  
 ऋषि मुनि सूची 789 17  
**आधिष**  
 विषजन्य 177 10  
 विषजन्य पदार्थ 177 5  
**आधिषता**  
 विषजन्यता 177 4  
**आधिष्कर्ता**  
*आधिष्कर्ता* 307 18 ⇨  
 विश्वकर्मा 773 44  
**आधिष्कार**  
*आधिष्कार* 307 5 ⇨  
 -रई कल्पना 308 2  
**आधिष्कारक**  
 आधिष्कर्ता 307 18  
**आधिष्कार करना**  
*आधिष्कार करना* 307 9 ⇨  
**आधिष्कृत**  
*आधिष्कृत* 307 17 ⇨  
**आधिष्ट**  
*आधिष्ट* 371 8 ⇨  
 उत्सृजित 371 10  
 उन्मत्त 354 22  
**आधीत**  
 उपनयन कृत शिष्य 798 21  
**आधृत**  
 आच्छादित 592 13  
 प्रच्छन्न 824 26  
 वेशित 589 25  
 वेष्टित 592 17  
**आधृत करना**  
 आच्छादित करना 592 8  
**आधृतता**  
 गुप्ताता 824 2  
**आधृत**  
 पलटा [पलटी] 1027 23  
 पुनराकर्तित 73 4  
 प्रतिनोदित 1051 35  
 मरोडा [मरोडी] 975 30  
**आधृति**  
*आधृति* 71 1 ⇨  
 एक चक्राधृति 1033 13  
 तह 975 15  
 धारावाही क्रिस्त 447 15

धुरी चक्रण 1033.1  
 पत्र पत्रिका अंक 445 3  
 परिधि चक्रण 1033.2  
 रीप्रिट 419 9  
**आधृति (दे.)**  
 पुनराधृति 73 1  
**आधृति अलंकार**  
 पुनरुक्ति अलंकार 454 10  
**आधृतिशील**  
*आधृतिशील* 71 9 ⇨  
**आधृतिहीन**  
*आधृतिहीन* 72 3 ⇨  
**आधृतिहीनता**  
 अनाधृति 72.1  
**आधृष्टि**  
 वर्षा 54 5  
**आधेग**  
 आवेश 371 1  
 गतिक बल 1050 1  
 दौरा 169 5  
 भाव विभोरता 358 14  
 मन तरंग 351 6  
 रोग तीव्रता 163 10  
 सर्वग 1042 10  
**आधेगक**  
 वेग वर्धक 1043 18  
**आधेगन**  
 वेग वर्धन 1043 6  
**आधेग शक्ति**  
 ऊर्जा 101 1  
**आधेगित**  
 वेग वर्धित 1043 17  
**आधेग्रा**  
 प्रालंब 1024 3  
**आधेदक**  
 पद आवेदक 653 31  
 फरियादी 350 22  
**आधेदकता**  
 पद आवेदकता 653 4  
**आधेदन**  
 निवेदन 350 1  
 पद आवेदन 653 3  
 याधिका 875 15  
**आधेदन करना**  
 पद आवेदन करना 653 23  
**आधेदन कर्ता**  
 निवेदक 350 16  
 पद आवेदक 653 31  
**आधेदन पत्र**  
 पद आवेदन पत्र 653 5  
 प्रार्थना पत्र 350 5  
**आधेदन पत्र लेखक**  
 याधिका लेखक 874 31  
**आधेदित**  
 निवेदित 350 15  
**आधेश**  
*आधेश* 371 1 ⇨  
 उन्माद 354 4

घार्ज 101 7  
**आधेश आना**  
*आधेश आना* 371.5 ⇨  
**आधेशाकर**  
 उन्मादकारी 354 23  
**आधेशग्रस्त**  
 आधिष्ट 371.8  
**आधेशपूर्ण**  
 आधिष्ट 371 8  
**आधेश में आना**  
 आधेश आना 371.5  
**आधेशहीन**  
*आधेशहीन* 372.12 ⇨  
**आधेशहीनता**  
*आधेशहीनता* 372 3 ⇨  
**आधेष्टन**  
 वृष्टन 592 5  
 व्याप्ति 981 5  
**आधेष्टित**  
 वेष्टित 592 17  
**आध्वजक**  
 -आप्रवासी 618 30  
**आध्वजन**  
 आप्रवासन 618 5  
**आशंकीय**  
 सदिष्ठा 341 9  
**आशंकीय होना**  
 आशंका न होना 378 4  
**आशंका**  
*आशंका* 377 1 ⇨  
 चिन्ता 377 2  
 जोश्रिम 513 5  
 सदेह 341 3  
**आशंकाजनक**  
 जोश्रिमपूर्ण 519 20  
**आशंका दर्शन**  
*आशंका दर्शन* 342 1 ⇨  
**आशंका न होना**  
*आशंका न होना* 378 4 ⇨  
**आशंकापूर्ण**  
 आशंकित 377 8  
 धिताग्रस्त 377 10  
**आशंकाशील**  
*आशंकाशील* 377 9 ⇨  
**आशंकाहीन**  
 अनाशंकित 378 7  
**आशंकाहीनता**  
 साहसपूर्वक 394 18  
**आशंकाहीनता**  
 अनाशंका 378 1  
**आशंका होना**  
 आशंकित होना 377 5  
**आशंकित**  
*आशंकित* 377 8 ⇨  
**आशंकिततः**  
*आशंकिततः* 377 14 ⇨  
**आशंकित होना**  
*आशंकित होना* 377.5 ⇨

## आशंकी

### आशंकी

आशंकाशील 377 9

### आशंकी

प्रशंसा गायक 841.11

### आशान

इंद्र वज्र 928 8

### आशाना

जार 806.5

प्रेमासक्त 368.21

### आशानार्ई

मित्रता 705.1

रोमांस 368 9

विवाह अनिच्छा 806 1

### आशय

अंतर्निहित अर्थ 426 8

अर्थ 426.1

उदर 148 6

गृह 601 1

धैला 673 1

पुटी 134.3

प्रयोजन 508.1

विश्राम स्थल 1090 19

सप्रहालय 669 8

### आशयन

शयन 1027 1

### आशय शुद्ध होना

सदाशय होना 817 6

### आशर

असुर 783 6

### आशय

वेग 1042 9

### आशा

अपेक्षा 359 3

आशा 375.1 ⇨

इच्छा 359 1

दिशा 29 1

देवसेना 774 47

प्रतीक्षा 1057 1

प्रत्याशा 375 5

### आशा के साथ

आशापूर्वक 375 11

### आशागज

दिग्गज 780 1

### आशाजनक

आशाजनक 375.8 ⇨

### आशा ठगनी

मिथ्या आशा 375 4

### आशातीत

प्रत्याशातीत 944 9

### आशातीतता

प्रत्याशातीतता 944 3

### आशा धर्षन

मृग दर्शन 342 6

### आशा न करना

अपेक्षा न करना 360.7

### आशानाश

साहस नाश 395 9

### आशानुकूल

प्रत्याशित 375 9

### आशानुकूलता

प्रत्याशानुकूलता 941.3

### आशानुरुप

प्रत्याशित 375 9

### आशान्वित

आशान्वित 375 7 ⇨

### आशा पिशाचिका

मिथ्या आशा 375 4

### आशापूर्ण

आशान्वित 375.7

प्रतीक्षापूर्ण 1057 8

### आशापूर्वक

आशापूर्वक 375.11 ⇨

### आशाप्रद

आशाजनक 375 8

### आशा भंग

हताशा 376.2

### आशा भंग होना

हताशा होना 376.4

### आशावान [आशावती]

आशान्वित 375 7

### आशाहीन

आशाहीन 376.5 ⇨

### आशाहीनता

आशाहीनता 376 1 ⇨

### आशिक

प्रेमासक्त 368 21

प्रेमी 368.2

### आशिक मित्राज

प्रेम प्रवण 368.22

### आशिकाना

प्रेमपूर्ण 368 17

### आशिकी

प्रेम 368.1

प्रेमासक्ति 368.8

रोमांस 368.9

### आशित

भरे पेट वाला 182 13

### आशिमा

द्रुतता 1044.1

### आशियाना

गृह 601 1

नीड़ 603 3

### आशी

प्रत्याशी 375.10

### आशीर्वचन

आशीर्वचन 714 4

समापन उक्ति सूची 522.7

### आशीर्वच

अभिवादन उत्तर 1080.22

आशीर्वच 714.4 ⇨

प्रसाद 750 13

संरक्षणपूर्ण सहायता 700.13

### आशीर्वच दाता

आशीर्वच दाता 714.11 ⇨

### आशीर्वच देना

आशीर्वच देना 714.7 ⇨

### आशीर्वचदात्मक

कल्याणपूर्ण 710.20

### आशीच

आशीर्वच 714.4

### आशु

द्रुत 1044.6

शीघ्रकारी 496.9

### आशुकवि

आशुकवि 448.14 ⇨

### आशु कविता

आशु कविता 451.18 ⇨

### आशुकोपी

क्रोधी 373.29

धिड़धिड़ा [धिड़धिड़ी] 373.32

### आशुग

वायु 85.1

### आशुगामी

द्रुतगामी [द्रुतगामिनी] 1044 7

### आशुप्राहिता

तीक्ष्ण बोध क्षमता 301.13

### आशुता

शीघ्रता 496.1

### आशुतोष

शिव 767.1

सहज तुष्टि 374.21

### आशुतोषता

सहज तुष्टि 374.9

### आशुतोषिता

सहज तुष्टि 374.9

### आशुलिपि

आशुलेख 412.14

### आशुलिपिक

आशुलेखक 412 15

### आशुलेख

आशुलेख 412.14 ⇨

### आशुलेखक

आशुलेखक 412.15 ⇨

### आशु लेखन करना

आशु लेखन करना 412.40 ⇨

### आशोधन

समाकलन 947.8

### आशोधित

समाकलित 947.23

### आश्चर्य

आश्चर्य 379.1 ⇨

विलक्षण वस्तु 312.6

आश्चर्य का विषय होना

विलक्षण होना 312.11

### आश्चर्यचकित

आश्चर्यचकित 379 8

### आश्चर्यचकितता

आश्चर्यचकितता 379.2

### आश्चर्यजनक

आश्चर्यजनक 379.9 ⇨

विलक्षण 312.16

### आश्चर्यजनक कार्य

करतब 506.7

### आश्चर्यजनकता

विलक्षणता 312.3

### आश्चर्यजनक होना

विलक्षण होना 312.11

### आश्चर्यपूर्ण

आश्चर्यजनक 379.9

नाटकीय 466.19

### आश्चर्यपूर्णता

नाटकीयता 466.2

### आश्चर्यपूर्वक

आश्चर्यपूर्वक 379.11 ⇨

### आश्चर्य: वस्तु

विलक्षण वस्तु 312.6

### आश्चर्य होना

आश्चर्य होना 379.5 ⇨

### आश्चर्यान्वित

आश्चर्यित 379 8

### आश्चर्यित

आश्चर्यित 379.8 ⇨

### आश्चर्यितता

आश्चर्यितता 379.2 ⇨

### आश्चर्यित होना

आश्चर्य होना 379.5

### आश्चर्य

पाषाणीय 99 15

### आश्चर्यान

हिमित 105 23

### आश्चरण

उवाल पक्कन 195.35

परिपाचन 195.19

रसोई कर्म 195.6

### आश्रम

आश्रम 745.2 ⇨

आश्रम धर्म 233.1

ईसाई मठ 745.10

उपवन 12.11

उपासनालय 745.13

ऋषि आश्रम 745 4

गुरुकुल 321.16

मठ 745.7

सायु संत आश्रम 745.5

### आश्रम धर्म

आश्रम धर्म 737.30 ⇨

आश्रम धर्म 233.1 ⇨

आश्रम धर्म (दे.)

आश्रम धर्म 737.30

### आश्रमवासी

आश्रमवासी 745.3 ⇨

### आश्रमवासी पर्व

महाभारत: पर्व सूची 771.23

### आश्रमिक

आश्रमवासी 745.3

### आश्रमी

आश्रमवासी 745.3

### आश्रय

आधार 596.1

गृह 801.1  
टेक स्टैंड 596.8  
तरकस 926.22  
प्रतिवात स्थान 1073.24  
शरण 910.4  
सहायता 700.11  
आश्रय प्राप्ति  
शरणागत 910.12  
आश्रयण  
आधार ग्रहण 1019.6  
आधारण 1019.5  
आश्रय दाता  
शरण दाता 910.13  
आश्रय पर टिकना  
घरा जाना 1019.9  
आश्रय भाव  
आश्रय भाव 752.12 ⇨  
आश्रय रेखा  
आधार भुजा 968.30  
आश्रय लेना  
शरण लेना 910.7  
आश्रय स्थल  
शरण स्थल 910.5  
आश्रयहीन  
अनाथ 719.5  
आवासहीन 617.11  
आश्रयहीनता  
आवासहीनता 617.1  
आश्रयारण्य  
अभयारण्य 12.9  
आश्रयण  
नेपथ्य पूर्वरंग सूची 468.18  
श्रवण 293.2  
आश्रित  
आधारित 1019.17  
परावलंबी 648.12  
शरणागत 910.12  
आश्रित जन  
परिवार जन 726.9  
आश्रितता  
आधारितता 1019.1  
परावलंबितता 648.3  
आश्रित राग  
रागिनी 457.23  
आश्रित रेखा  
लंब रेखा 968.34  
आश्रित होना  
घरा जाना 1019.9  
आश्रुत  
श्रुत 293.13  
आश्रय  
विश्वसनीय 340.13  
आश्रयता  
विश्वसनीयता 340.2  
आश्रित  
आलेपित 292.13  
संपर्कागत 703.11

आश्वस्त  
विश्वासी 340.14  
सांत्वित 393.21  
आश्वस्त करना  
सांत्वना देना 393.12  
आश्वास  
उन्मुक्त श्वास 245.7  
विश्वास 340.1  
आश्वासक  
सांत्वद 393.22  
आश्वासन  
अभय दान 910.3  
भय नाशन 394.9  
सांत्वना प्रदान 393.5  
आश्वासन देना  
सांत्वना देना 393.12  
आश्वासपूर्ण  
सांत्वनापूर्ण 393.20  
आश्वासित  
सात्वित 393.21  
आश्विन  
आश्विन 43.13 ⇨  
भारतीय मास सूची 43.6  
आश्विन कृष्ण त्रयोदशी  
विश्वकर्मा पूजन 57.25  
आश्विन कृष्ण पक्ष  
पितृ पक्ष 45.4  
साँझी 57.29  
आश्विन पूर्णिमा  
शरद पूर्णिमा 57.26  
आश्विन शुक्ल दशमी  
दशहरा 57.9  
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमः  
दुर्गा पूजा 57.14  
आश्विनेय  
अश्विनी कुमार 773.3  
नकुल 771.68  
नकुल सहदेव 771.69  
सहदेव 771.96  
आषाढ  
आषाढ 43.10 ⇨  
भारतीय मास सूची 43.6  
वर्षा काल 54.1  
आषाढ शुक्ल द्वितीया  
रथ यात्रा 57.19  
आषाढरथ प्रथम दिवस  
प्रथम वर्षा दिन 54.3  
आषाढाभव  
मंगल ग्रह 7.7  
आसर्ग  
संलग्नता 1010.2  
आसर्गी  
आसक्त 365.5  
संलग्न होने वाला 1010.19  
आसर्जक  
आसक्तिकर 365.6  
आसर्जनी  
मूठ 596.24

आसंदी  
आराम कुरसी 595.24  
बुनी चौकी 595.18  
आसंधन  
मिलाई 389.2  
आस  
आशा 375.1  
आसन 595.2  
इच्छा 359.1  
धनुष 926.8  
प्रतीक्षा 1057.1  
विश्वास 340.1  
शरण 910.4  
श्रद्धा 340.5  
आस औलाद  
संतान समष्टि 718.2  
आसक्त  
आसक्त 365.5 ⇨  
प्रेमासक्त 368.21  
भोगलिप्सु 363.17  
वशीकृत 758.41  
आसक्त करना  
आसक्त करना 365.4 ⇨  
आसक्ततः  
आसक्तिपूर्वक 365.8  
आसक्त न होना  
आसक्त न होना 366.3 ⇨  
आसक्त होना  
आसक्त होना 365.3 ⇨  
आसक्ति  
आसक्ति 365.1 ⇨  
प्रेम 368.1  
प्रेमासक्ति 368.8  
भोग लिप्सा 363.4  
आसक्तिकर  
आसक्तिकर 365.6 ⇨  
आसक्ति र्थाग  
विरक्ति 366.2  
आसक्तिपूर्ण कर्म  
सकाम कर्म 504.7  
आसक्तिपूर्वक  
आसक्तिपूर्वक 365.8 ⇨  
आसक्ति मुक्त होना  
विरक्त होना 366.4  
आसक्तिहीन  
अनासक्त 366.5  
आसक्तिहीन कर्म  
निष्काम कर्म 504.6  
आसक्तिहीनता  
अनासक्ति 366.1  
आस दूटना  
साहस दूटना 395.17  
हतास होना 376.4  
आसदन  
आसन ग्रहण 1028.1  
आसदन (वे.)  
आधार ग्रहण 1019.6

आसन  
आसन 586.20 ⇨  
आसन 595.2 ⇨  
आसन ग्रहण 1028.1  
उपदेश मंच 745.42  
बैठना मुद्रा 1028.4  
मठ 745.7  
योग आसन 756.18  
योगांग सूची 756.14  
बोडशोपचार सूची 750.4  
सत्ता आसन 595.8  
आसन ग्रहण  
आसन ग्रहण 1028.1 ⇨  
आसन ग्रहण करना  
बैठना 1028.8  
आसन ग्रहीत  
आसीन 1028.10  
आसन धर्म  
आसन धर्म 582.12 ⇨  
आसनधारी  
सत्तारूढ 899.25  
आसनन  
आसन ग्रहण 1028.1  
आसन पाटी  
घटाई 593.49  
आसन पाटी ले कर पढ़ना  
रूठना 374.11  
आसन लेना  
बैठना 1028.8  
आसनी  
छोटी दुकान 662.2  
आसन्न  
अस्तित्वशाली 246.11  
आसन्न 67.10 ⇨  
आसीन 1028.10  
निकटस्थ 31.7  
आसन्नकाल  
परणासन्न 249.27  
आसन्नतः  
आसन्नतः 67.12 ⇨  
आसन्नता  
आसन्नता 67.2 ⇨  
आसन्न प्रसवा  
आसन्न प्रसवा 244.14 ⇨  
आसन्न भविष्युता  
आसन्नता 67.2  
आसन्नमृत्यु  
परणासन्न 249.27  
आसन्न होना  
आसन्न होना 67.7 ⇨  
आस पड़ोस  
पड़ोस 31.3  
आसपास  
अंदाज़न 947.28  
दक्षिण वाम पार्श्व में 997.24  
निकट में 31.9  
पड़ोस 31.3

## आस पास का

**आस पास का**  
सादृश्याभासित 309.21  
**आसपास की भूमि**  
पार्श्व भूमि 997.4  
**आसपास घूमना**  
मँडराना 1033.16  
**आसपास परिक्रमण**  
मँडराव 1033.12  
**आसमान**  
आकाश 2.1  
**आसमान का तारा**  
कठिन कार्य उपमान सूची 487.34  
**आसमान के तारे तोड़ना**  
कठिन कार्य करना 487.17  
दिवा स्वप्न देखना 267.7  
**आसमान घूना**  
प्रतिष्ठा बढ़ना 849.11  
**आसमान टूटना**  
महान सकट आना 909.18  
**आसमान दिखाना**  
जीतना 912.12  
**आसमान पर**  
उच्यत 982.12  
**आसमानी**  
अयत्नित 769.42  
आकाशीय 2.7  
ईश्वर प्रदत्त 764.37  
काल्पनिक 308.18  
हलका नीला 289.51  
**आसमानी किताब**  
अपीरुषेय धर्मग्रन्थ 738.3  
कुरान 739.2  
**आसमानी कुलाबा**  
दिवा स्वप्न 267.2  
**आसमानी पुल**  
दिवा स्वप्न 267.2  
**आसरा**  
आधार 596.1  
आश्रय भाव 752.12  
प्रतीक्षा 1057.1  
बैसाखी 596.14  
वक्ता गृह 601.2  
शरण 910.4  
शरण स्थल 910.5  
**आसुरित**  
शरणागत 910.12  
**आसुरे**  
सहायता से 700.28  
**आस लगाना**  
आतुर प्रतीक्षा करना 1057.6  
**आस्य**  
अर्क 84.13  
आस्य 84.15 ⇨  
निष्कर्ष प्रकार सूची 84.2  
पुष्प रस 84.6  
मद्य 209.1  
**आस्यक**  
आस्यक 82.8 ⇨

**आस्यन**  
आस्यन 82.1 ⇨  
मद्य आस्यन 82.2  
**आस्यन उपकरण**  
आस्यन उपकरण 82.4 ⇨  
**आस्यन करना**  
आस्यन करना 82.5 ⇨  
**आस्यन शाला**  
मद्य आस्यन शाला 82.3  
**आस्यनी**  
आस्यन उपकरण 82.4  
मद्य आस्यन शाला 82.3  
**आस्यित**  
आस्यित 82.7 ⇨  
**आस्यित करना**  
आस्यन करना 82.5  
**आस्यित जल**  
आस्यित जल 88.6 ⇨  
**आस्यित इष**  
आस्य 84.15  
**आस्य्य**  
आस्य 84.15  
**आसाइ**  
आसाइ 43.10  
**आसादन**  
आधारण 1019.5  
**आसान**  
बोध्य 518.17  
सहज 518.14  
सह्य 872.18  
सुनिवार्य 920.20  
सुलभ 943.10  
सुविधाजनक 518.15  
**आसान काम**  
सहज कार्य 518.2  
**आसान होना**  
बाएँ हाथ से कर सकना 487.18  
**आसानी**  
सहजता 518.1  
सुलभता 943.2  
सुविधा 518.3  
**आसानी से**  
अप्रयत्नत 490.15  
सहजतः 518.24  
सुलभतः 943.7  
**आसानी से कर सकना**  
बाएँ हाथ से कर सकना 487.18  
**आसानी से मिलना**  
सुलभ होना 943.6  
**आसाबरदार**  
छड़ीबरदार 930.10  
**आसाम**  
असम 28.11  
**आसाम का जादू**  
पूर्व का जादू 474.5  
**आसार**  
आरंभिक लक्षण 317.6  
तीव्र वर्षा 54.11

**दीवार: चीड़ाई** 986.7  
नीरें 807.12  
शकुन 262.1  
**आसारित**  
नेपथ्य पूर्वरंग सूची 488.18  
**आसावरी**  
राग रागिनी सूची 457.24  
**आसिया**  
चक्की 560.13  
**आसीन**  
आधारित 1019.17  
आसीन 1028.10 ⇨  
**आसीनता**  
आधारितता 1019.1  
आसीनता 1028.3 ⇨  
**आसीन होना**  
बैठना 1028.8  
**आसीस**  
आशीर्वाद 714.4  
**आसुत**  
आस्यित 82.7  
**आसुत जल**  
आस्यित जल 88.6  
**आसुर**  
असुर 783.6  
असुरीय 783.29  
ईश्वर कृत 764.36  
काला नमक 279.6  
परलौकिक 258.14  
भुतहा [भुतही] 759.20  
**आसुर विवाह**  
आसुर विवाह 799.22 ⇨  
**आसुरि**  
इष्टमा: पुत्र सूची 766.10  
**आसुरी**  
असुर स्त्री 783.7  
असुरीय 783.29  
राई 196.19  
राक्षसीय 784.30  
**आसुरी भाव**  
असुरता 783.5  
**आसूचना**  
गुप्त सूचना 866.17  
**आसेध**  
निषेध 880.1  
**आसेब**  
आहति 168.1  
भूत बाधा 759.7  
**आसेवन**  
उपभोगन 524.2  
दिलास 363.6  
**आसेयित**  
उपभुक्त 524.14  
**आसेयी**  
उपभोक्ता 524.16  
भक्षक 181.53  
**आसेय्य**  
उपभोग्य 524.15

**आस्ट्रेलिया**  
महाद्वीप सूची 28.5  
**आस्तर**  
गद्दा 593.39  
बिछावन 593.35  
**आस्तरण**  
बिछन 592.3  
संस्तरण 990.2  
**आस्तरित**  
बिछा [बिछी] 592.16  
संस्तरित 990.30  
**आस्ताना**  
आश्रम 745.2  
इसलामी मठ 745.9  
गृह 601.1  
चौखट: अधोकाष्ठ 609.3  
**आस्सारण**  
बिछाई 592.4  
**आस्ताय**  
स्तोत्र 741.16  
**आस्ति**  
सकल संपत्ति 624.2  
**आस्तिकता**  
आस्तिकतावाद 760.13  
**आस्तिकतावाद**  
आस्तिकतावाद 760.13 ⇨  
**आस्तिक्य**  
आस्तिकतावाद 760.13  
**आस्तियी**  
आस्तियाँ 628.21 ⇨  
**आस्तीक**  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
**आस्तीन**  
आस्तीन 585.77 ⇨  
**आस्तीन: कक**  
आस्तीन: कक 585.78 ⇨  
**आस्थगन**  
स्थगन 495.2  
**आस्थगित**  
स्थगित 495.13  
**आस्था**  
आदर 854.1  
आस्था भाव 752.13  
धर्म 735.1  
श्रद्धा 340.5  
**आस्था (दे.)**  
पूर्ण आस्था 375.3  
**आस्थापना**  
स्थितन 1020.3  
**आस्था भाव**  
आस्था भाव 752.13 ⇨  
**आस्था योग्य**  
श्रद्धेय 340.17  
**आस्थायान**  
भक्त 752.2  
**आस्थायान [आस्थायनी]**  
श्रद्धालु 340.18



- आस्थाहीन**  
 श्रद्धाहीन 341.8  
**आस्थाहीनता**  
 श्रद्धाहीनता 341.2  
**आस्था होना**  
 श्रद्धा होना 340 10  
**आस्थिक**  
 अस्थीय 133 20  
 -आस्पद  
 सहित प्रत्यय सूची 1006.5  
**आस्फोट**  
 ताल 458 23  
**आस्फोटक**  
 ताल धारक 458 24  
**आस्फोटनी**  
 बरमा 559 49  
**आस्यंवन**  
 चावण 1032 2  
**आस्य**  
 मुख मंडल 140 11  
**आस्युत**  
 सिला [सिली] 577 28  
**आश्रय**  
 श्राय 1032 1  
**आश्राय**  
 प्रवाह 1041.1  
 श्राय 1032 1  
**आस्यनित**  
 ध्वनित 294.21  
**आस्याद**  
 रुधि 400 1  
 स्वाद 275 1  
**आस्यादक**  
 स्वादज्ञ 275 18  
**आस्यादन**  
 आस्यादन 275.6 ⇨  
 कला उपभोग 399.1  
**आस्यादन करना**  
 कला उपभोग करना 399 17  
**आस्यादित**  
 आस्यादित 275 17 ⇨  
**आस्याद्य**  
 स्वादिष्ट 275.20  
**आस्याद्यता**  
 स्वादिष्टता 275.10  
**आस्याद्य पदार्थ**  
 आस्याद्य पदार्थ 275.7 ⇨  
**आह**  
 आह 386.4 ⇨  
**आह (दे.)**  
 दीर्घ स्वास 245.8  
**आहत**  
 आहत 297.1 ⇨  
 ध्वनि 294.1  
**आहत न होना**  
 ध्वनि न होना 295.3  
**आहत लेना**  
 आहत लेना 297.42 ⇨  
 टोहना 336.22  
**आहत**  
 आहत 168.6 ⇨  
 उत्प्रेषित 391.28  
**आहत करना**  
 आहत करना 168.5 ⇨  
**आहति**  
 आहति 168.1 ⇨  
 मारण 251.1  
**आहन**  
 लोहा 93 7  
**आहनगर**  
 लोहार 565 15  
**आहनगरी**  
 लोहार कर्म 565 14  
**आहनन**  
 कुटाई 540 2  
**आह निकलना**  
 आह भरना 386 18  
**आहनी**  
 कठोर 269.17  
 बलिष्ठ 160 10  
 लौह 93 17  
**आह भरना**  
 आह भरना 386.18 ⇨  
**आहरण**  
 अधिग्रहण 635.1  
 आनयन 1053 1  
 चौर्य वृत्ति 864 1  
 प्रत्यावाहन 1055 4  
 भक्षण 181.10  
 भोजन कर्म 181 4  
**आहर्ता**  
 अपहर्ता 862 8  
 आनयन कर्ता 1053.11  
 चोर 864 3  
 यज्ञपति 753 4  
**आहव**  
 यज्ञ 753.1  
**आहवन**  
 आहुति दान 753 6  
 आहुति द्रव्य 753.27  
**आही**  
 नहीं 338.51  
**आहा**  
 आनद. ध्वनि सूची 382.25  
 शाब्दिकी: उद्गार सूची 841 40  
**आहार**  
 आहार पदार्थ 186 1  
 खाद्य आहार 197.1  
**आहार अभाव**  
 आहार अभाव 627 3 ⇨  
**आहार अभावग्रस्त**  
 आहार अभावग्रस्त 627 18 ⇨  
**आहार अभाव होना**  
 आहार अभाव होना 627.11 ⇨  
**आहार अभाव होना**  
 आहार अभाव होना 627 11  
**आहार अर्पण**  
 आहार अर्पण 183.23 ⇨  
**आहार अलमारी**  
 आहार अलमारी 671.10 ⇨  
**आहार अवकाश**  
 भोजन अवकाश 494 5  
**आहार अशौच**  
 आहार अशौच 198 7 ⇨  
**आहार आचार**  
 आहार आचार 198 1 ⇨  
**आहार कक्ष**  
 भोजन कक्ष 194 9  
**आहार काल**  
 आहार काल 199.1 ⇨  
**आहार काल सूची**  
 आहार काल सूची 199.2 ⇨  
**आहार गंध**  
 आहार सुवास 281 1  
**आहार गृह**  
 भोजनालय 194.1  
**आहार त्याग**  
 व्रत उपवास 748 1  
**आहार नली**  
 आहार नली 145 8 ⇨  
**आहार नली: द्वार**  
 कठ 145 9  
**आहार पदार्थ**  
 आहार पदार्थ 186.1 ⇨  
**आहार परिपाचन**  
 परिपाचन 195 19  
**आहार पाक**  
 पाचन 178 3  
**आहार भंडार**  
 अनाज गोदाम 670 18  
**आहार भत्ता**  
 आहार भत्ता 643.37 ⇨  
**आहार भत्ताला**  
 आहार भत्ताला 281.3 ⇨  
**आहार मात्रा**  
 आहार मात्रा 182.1 ⇨  
**आहार यान**  
 डाइनिंग कार 1076 5  
**आहार रूखापन**  
 आहार रूखापन 197.13 ⇨  
**आहार बाहिनी**  
 आहार नली 145 8  
**आहार विक्रेता**  
 आहार विक्रेता 194.11 ⇨  
**आहार वितरण**  
 आहार वितरण 183.30 ⇨  
**आहार वितरण करना**  
 आहार वितरण करना 183.37 ⇨  
**आहार वितरण केंद्र**  
 आहार वितरण केंद्र 183.31 ⇨  
**आहार व्यंजन**  
 आहार व्यंजन 199.10 ⇨  
**आहार शैली**  
 पाक शैली 196.5  
**आहार शौच**  
 आहार शौच 198.6 ⇨  
**आहार संकोच**  
 भोजन संकोच 182.3  
**आहार संपन्न**  
 आहार संपन्न 626 13 ⇨  
**आहार संपन्नता**  
 आहार संपन्नता 626.2 ⇨  
**आहार संभार**  
 राशनिंग 186 10  
**आहार सुवास**  
 आहार सुवास 281 1 ⇨  
**आहार सुवासित करना**  
 आहार सुवासित करना 281.40 ⇨  
**आहार सूची**  
 मैन्सू 199 8  
**आहार स्निग्धव्य**  
 स्निग्धव्य 196.1  
**आहारहीन उपवास**  
 निराहार उपवास 748.3  
**आहारहीनता**  
 आहार अभाव 627 3  
**आहारिका**  
 मैन्सू 199 8  
**आहारी**  
 भक्षक 181.53  
**आहार्य**  
 आहार्य 197.22 ⇨  
 खाद्य आहार 197 1  
 शौच (आहार) 198.13  
**आहार्य अभिनय**  
 आहार्य अभिनय 464.36 ⇨  
**आहार्यता**  
 आहार शौच 198 6  
 आहार्यता 197.12 ⇨  
**आहार्याभिनय**  
 आहार्य अभिनय 464.36  
**आहाव**  
 अग्नि 106.1  
**आहिस्ता**  
 मंदत 1045 15  
**आहिस्ता आहिस्ता**  
 गुप्ततः 824.29  
 ध्वनिहीनतः 295.6  
 मंदत 1045.15  
 सावधानतः 497.6  
**आहिस्ता आहिस्ता जाना**  
 चुबलाना 181.41  
**आहिस्ता करना**  
 वेग कम करना 1043.14  
**आहिस्ता चाल**  
 मंद गति 1045.2  
**आहुत**  
 आवाहित 1055.11  
**आहुति**  
 आहुति दान 753 6  
 आहुति द्रव्य 753.27  
 चढ़ाया 750.12

## आहुति दाता

बलि वस्तु 754.2  
**आहुति दाता**  
 आहुति दाता 753.7 ⇨  
**आहुति दान**  
 आहुति दान 753.6 ⇨  
 बलि कर्म 754 1  
**आहुति देना**  
 आहुति देना 753 31 ⇨  
 बलि करना 754 18  
**आहुति द्रव्य**  
 आहुति द्रव्य 753.27 ⇨  
**आहु**  
 हिरन 127.42  
**आहुत**  
 आयाधित 1055 18  
 आवाहित 1055 11  
**आहुति**  
 आयाधन 1055 5  
 आवाहन 1055 1  
 निमंत्रण 1056 1  
**आहुत**  
 अपहृत 862 7  
 घुसा [घुरी] 864.51  
**आह्विनिक**  
 दैनिक 71 14  
**आह्लाद**  
 आनंद 382.1  
**आह्लादक**  
 आनंदप्रद 382.18  
**आह्लादकारी**  
 विनोदी 385.13  
**आह्लादान**  
 प्रसन्न 381.2  
**आह्लादित**  
 आनंदित 382 17  
**आह्वनीय अग्नि**  
 यज्ञाग्नि सूची 106 5  
**आह्व्यान**  
 आवाहन 1055 1  
 ललकार 373 14  
 समन 875 17

## इ

**इक (अ)**  
 मुद्रण रगव्य 290 16  
 स्याही 416.25  
**इकपेड (अ)**  
 स्टैंप पेड 414.20  
**इकपीट (अ)**  
 दवात 416.26  
**इकलाव**  
 क्रांति 903 5  
**इकलावी**  
 क्रांति कर्ता 903.20  
 क्रांतिपूर्ण 903.19  
**इंग**  
 अंग मुद्रा 464 33

गतिशील 1042.11  
**इंगन**  
 संघलन 1037 4  
**इंगला**  
 इका नाड़ी 757 3  
**इंगित**  
 अंगुली संकेत 422 5  
 निदेश 347.2  
 संकेत 422.4  
**इंगित अर्थ**  
 अंतर्निहित अर्थ 426.8  
**इंगित करना**  
 लक्षण बताना 317 14  
**इंगिता (प्र)**  
 इडेक्स 993.8  
**इंगुर**  
 सिदूर 225 18  
**इंगुरीदी**  
 सिदूरदानी 225 35  
**इंच**  
 इंच 959.9 ⇨  
**इंच (अ)**  
 वर्षा माप सूची 958 40  
**इंच: 1/10**  
 सूद 959.10  
**इंच: 1/18**  
 सूद 959.10  
**इंच: 12**  
 फुट 959.13  
**इंच: 1/8**  
 सूद 959.10  
**इंच: 18**  
 हाथ 959 18  
**इंच: 36**  
 गज 959.11  
**इंच: 9**  
 बालिरत 959.14  
**इंचार्ज (अ)**  
 कार्याध्यक्ष 652 17  
**इंची टेप**  
 पैमाइशी टेप 571.21  
**इंजन**  
 इंजन 1078.1 ⇨  
**इंजन (अ)**  
 अग्रयान 1070 8  
 इंजन 1078.1  
 रेलगाड़ी इंजन 1078 10  
**इंजन घर**  
 लोको शैड 1069.31  
**इंजीनियर (अ)**  
 अभियांत्रिक 558.15  
 मरम्मत कर्मी 538.9  
**इंजीनियरिंग (अ)**  
 अभियांत्रिकी 558 14  
**इंजील**  
 बाइबिल 739.8  
**इंजैकशन**  
 इंजैकशन 176.27 ⇨

**इंजैकशन (अ)**  
 इंजैकशन 176.27  
 सिरिज 1032.15  
**इंटेकोहरा**  
 इंटोरा 938.34  
**इंटरनेट**  
 इंटरनेट 444 31 ⇨  
**इंटरनेट (अ)**  
 इंटरनेट 444.31  
**इंटरलीफ़ (अ)**  
 अंतर्पत्र 1002 7  
**इंटरलीब करना**  
 अंतर्पत्रित करना 1002 19  
**इंटरवल (अ)**  
 कार्य अंतराल 494 4  
**इंटरव्यू (अ)**  
 भेंट 436.4  
 भेंटवार्ता 436 5  
 विशेष भेंटवार्ता 445 20  
**इंटरव्यूअर (अ)**  
 भेंटवार्ता कर्ता 436.13  
**इंटरव्यू कर्ता**  
 भेंटवार्ता कर्ता 436.13  
**इंटरनैट (अ)**  
 नजरक़ैद 868 9  
**इंटेग्रल कैलकुलस (अ)**  
 समाकलन गणित 953.7  
**इंटेरिम (अ)**  
 अंतरिम कालीन 80.12  
**इंटेसिजेंट (अ)**  
 गुप्त सूचना 866 17  
**इंटोरा**  
 इंटोरा 938 34 ⇨  
**इंड (अ)**  
 भारत 28 1  
**इंडकशन (अ)**  
 आगम तरकण 325.12  
**इंडस्ट्रियलिस्ट (अ)**  
 उद्योगपति 557.5  
**इंडस्ट्री (अ)**  
 उद्योग 557.3  
 फ़िल्म जगत 470.3  
**इंडिगो (अ)**  
 नील निर्यात 220.24  
**इंडियन पीनल कोड (अ)**  
 भारतीय दंड संहिता 878.11  
**इंडियन ला (अ)**  
 भारतीय विधि 878 9  
**इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट (अ)**  
 भारतीय मानक संस्थान 957.4  
**इंडिया (अ)**  
 भारत 28.1  
**इडेक्स**  
 इडेक्स 993.8 ⇨  
**इडेक्स (अ)**  
 इडेक्स 993.8  
**इंतकाम**  
 प्रतिशोध 873.2

**इंतकाम**  
 घयन 1009.2  
 निर्वाचन 888.1  
**इंतज़ाम**  
 प्रबंध 655.5  
 व्यवस्था 893.5  
**इंतज़ामिया**  
 प्रबंधक समष्टि 655.11  
 प्रबंधीय 655.22  
**इंतज़ामी**  
 प्रबंधीय 655.22  
**इंतज़ार**  
 प्रतीक्षा 1057.1  
**इंतज़ारी**  
 प्रतीक्षक 1057.10  
**इंतहापसंब**  
 आतकवादी 395 24  
**इंतहापसंबी**  
 आतकवाद 395 6  
**इतिकाल**  
 मृत्यु 249 1  
**इतिकाल क्रमगाना**  
 मरना 249 18  
**इतिहा**  
 अंत 995.1  
 अत्यधिकता 944.2  
 पराकाष्ठा 534.3  
 सीमा 1001.1  
**इतिहाई**  
 अंतिम 995 11  
 अत्यधिक 944 7  
 पराकाष्ठात्मक 534 13  
**इंवर**  
 इंद्र 773.5  
**इंवर देवता**  
 इंद्र 773.5  
**इंवरराज**  
 लेखा प्रविष्टि 632.5  
**इंवारा**  
 कूप 19.3  
**इंबिरा**  
 दीप्ति 287 16  
 लक्ष्मी 775.1  
 शोभा 226.1  
**इंदिराज**  
 प्रविष्टि 412.27  
**इंबिरा रमण**  
 विष्णु 768 1  
**इंदिरालय**  
 नील कमल 14.5  
**इंदीवर**  
 नील कमल 14 5  
**इंदु**  
 चंद्रमा 8 2  
 सिंधु 20.22  
**इंदु कमल**  
 श्वेत कमल 14 7

इन्दु कला	इन्द्र कृषि	इन्द्रधनुषः रंग	इन्द्रः शक्ति
चंद्र कला 8.3	वर्षासिंधित कृषि 548.17	वर्णांली रंग 289.8	राची 774.89
इन्दुकांत	इन्द्रकृष्ट	इन्द्रधनुषः वर्षा क्रम	इन्द्र शत्रु
चंद्रकांत मणि 96.17	अकृषित (अनाज) 187.22	वर्णांली 289.7	प्रह्लाद 769.22
इन्दुकाता	अहलित 548.49	इन्द्रधनुषी	इन्द्रः श्वशुर
रात 46.1	वर्षा सिंधित 548.58	सतरंगा [सतरंगी] 289.74	पुलोमा 783.14
इन्दुजनक	इन्द्रकृष्टा	इन्द्रधनुषी कार्यक्रम	इन्द्र सहचर
समुद्र 24.1	अहल्या 770.17	विविध मनोरंजन 468.3	विद्याधर 779.15
इन्दुजा	इन्द्रकेतु	इन्द्रः ध्वज	इन्द्रः सारथी
नर्मदा 20.16	इन्द्रः ध्वज 773.9 ⇨	इन्द्रः ध्वज 773.9 ⇨	इन्द्रः सारथी 773.8 ⇨
इन्दुदेश	इन्द्र कोश	इन्द्रः नगर	इन्द्र सारथी
भारत 28.1	पलग 594.10	इन्द्रः नगर अमरावती 773.7	वायु 85.1
इन्दुभूषण	इन्द्रः खड्ग	इन्द्रः नगर अमरावती	इन्द्र सारथि मनु
शिव 767.1	इन्द्रः खड्ग 924.4 ⇨	इन्द्रः नगर अमरावती 773.7 ⇨	मनु सूची 788.4
इन्दु मणि	इन्द्रगुरु	इन्द्र निधि मंजारी	इन्द्रसुच
चंद्रकांत मणि 96.17	बृहस्पति 789.22	कुबेर 779.4	अर्जुन 771.36
मोती 97.2	इन्द्रगोप	इन्द्रनील	जयंत 773.29
इन्दुमती	कीट सूची 122.12	नीलम 96.12	बाली 781.13
पुणिमा 44.24	जुगनु 122.22	इन्द्रनीलक	इन्द्रसेन
इन्दु रत्न	वीर बहूटी 122.32	पत्रा 96.13	बलि 769.37
मोती 97.2	इन्द्रचाप	इन्द्रनेत्र	इन्द्र सेनापति
इन्दुल तलब	इन्द्रधनुष 55.8	हजारः उपमान सूची 948.73	स्कंद 773.50
मौगदेय 634.30	इन्द्रछंद	इन्द्रः पत्नी	इन्द्रः हत्थी
इन्दु लेखा	1008 लकी माला 228.47	इन्द्र पत्नी 773.6 ⇨	ऐरावत 780.5
चंद्र कला 8.3	इन्द्रजाल	इन्द्रपथ	इन्द्रा
इन्दु लीह	चीसठ कला सूची 397.4	आकाश गंगा 1.14	शची 774.89
चौदी 95.3	जादूगरी 474.9	इन्द्रः पुत्री	इन्द्राग्नि धूम
इन्दुवदन [इन्दुवदना]	जादू प्रभाव 474.10	जयंती 774.37	तुषार पात 90.9
सुमुख [सुमुखी] 158.12	तिलिस्म 474.13	इन्द्रपुरी	इन्द्राणी
इन्दुधार	माया दर्शन 347.4	इन्द्रः नगर अमरावती 773.7	दुर्गा 776.7
सोमवार 46.4	इन्द्रजालग्रस्त	इन्द्र पुरोहित	देवी शक्ति सूची 774.50
इन्दुगोखर	जादुकृत 474.37	बृहस्पति 789.22	बकी इलायची 281.10
शिव 767.1	इन्द्रजालीय	इन्द्रप्रथ	बाई पुतली 141.7
इन्दुर	तिलिस्मी 474.38	दिल्ली 28.42	शची 774.89
चूहा 127.60	इन्द्रजित	इन्द्र बहूटी	सप्त मातृका सूचा 774.70
इन्द्र	दानय सूची 783.13	वीर बहूटी 122.32	इन्द्रानुज
अर्जुनः पिता 771.37	मेघनाद 784.10	इन्द्रमह	विष्णु 768.1
इन्द्र 773.5 ⇨	इन्द्रदमन	वर्षा 54.5	इन्द्रायुध
चौदहः उपमान सूची 948.47	दैत्य सूची 783.19	इन्द्रः माता	इन्द्रधनुष 55.8
दाहिनी पुतली 141.6	मेघनाद 784.10	अदिति 787.7	इन्द्र वज्र 928.8
प्रधान व्यक्ति 852.4	इन्द्रवारु	इन्द्र रथ	इन्द्रायसान
बारह आदित्य सूची 777.4	देवदारु 13.10	सप्तर्षि मंडल 3.10	मरुथल 11.11
राजा 882.6	इन्द्रदेय	इन्द्रलुप्त	इन्द्रारान
लोकपाल सूची 780.7	इन्द्र 773.5	केराहीन सिर 137.17	भौग 210.1
वैदिक त्रिमूर्ति सूची 785.6	इन्द्र देवता	इन्द्रलुप्ति	इन्द्रिय
सत्ताधारी 899.3	इन्द्र 773.5	गंजापन 137.16	इन्द्रिय 268.1 ⇨
इन्द्र (दे.)	इन्द्रमोही	इन्द्र लोक	पुरुष जननेन्द्रिय 152.10
अंतरिन्द्रिय 268.4	विश्वकर्मा 773.44	स्वर्ग 259.1	इन्द्रिय केंद्र
आत्मा 763.1	इन्द्रः धनुष	इन्द्रः वज्र	अंतरिन्द्रिय 268.4
मन 351.2	इन्द्रः धनुष 773.10 ⇨	इन्द्रः वज्र 773.11 ⇨	इन्द्रियगम्य
इन्द्र उद्यान	इन्द्रः धनुष 926.9 ⇨	इन्द्र वज्र	इन्द्रियगम्य 305.40 ⇨
देवताः उद्यान 772.12	इन्द्रधनुष	इन्द्र वज्र 928.8 ⇨	जोय 305.38
इन्द्रकार्मुक	इन्द्रधनुष 55.8 ⇨	इन्द्रः वज्र (दे.)	इन्द्रिय गोचर
इन्द्रधनुष 55.8	रामः धनुष 926.10	इन्द्रः वज्र 773.11	इन्द्रियगम्य 305.40
इन्द्रकील	इन्द्रः धनुष (दे.)	इन्द्र वधु	जोय 305.38
घट्टान 99.14	इन्द्रः धनुष 773.10	वीर बहूटी 122.32	इन्द्रियग्राह्य
मंदर पर्वत 17.12	इन्द्रधनुष (दे. मेघ)	इन्द्रवन	इन्द्रियगम्य 305.40
	इन्द्रः धनुष 926.9	देवताः उद्यान 772.12	

## इंद्रिय जय

**इंद्रिय जय**  
इंद्रिय निग्रह 364.4

**इंद्रियजित**  
जितेन्द्रिय 364.14

**इंद्रियजितता**  
जितेन्द्रियता 364.5

**इंद्रियजीत**  
जितेन्द्रिय 364.14

**इंद्रिय जीतना**  
इंद्रिय निग्रह करना 364.7

**इंद्रिय दमन**  
इंद्रिय निग्रह 364.4

**इंद्रियवचन**  
जितेन्द्रिय 364.14

**इंद्रिय निग्रह**  
इंद्रिय निग्रह 364.4 ⇨  
धर्म लक्षण सूची 737.29

**इंद्रिय निग्रह करना**  
इंद्रिय निग्रह करना 364.7 ⇨

**इंद्रिय निग्रही**  
इंद्रिय निग्रही 364.13 ⇨  
जितेन्द्रिय 364.14

**इंद्रिय परायण**  
विलासी 363.20

**इंद्रिय परायणता**  
विलास 363.6

**इंद्रिययुक्त**  
इंद्रिययुक्त 268.12 ⇨

**इंद्रिय राज**  
अंतरेन्द्रिय 268.4

**इंद्रियवाद**  
भोगवाद 760.21

**इंद्रियवान**  
इंद्रिययुक्त 268.12

**इंद्रिय विषय**  
इंद्रियार्थ 268.9

**इंद्रिय सुख**  
ऐंद्रिक सुख 390.5

**इंद्रिय सुख भोगना**  
विलास करना 363.12

**इंद्रिय सूची**  
इंद्रिय सूची 268.2 ⇨

**इंद्रियहीन**  
इंद्रियहीन 268.13 ⇨

**इंद्रियी वश में होना**  
जितेन्द्रिय होना 364.8

**इंद्रियातीत**  
इंद्रियातीत 306.14 ⇨  
ईश्वर 764.1

**इंद्रियातीत जगत**  
मनोजगत 351.1

**इंद्रियात्मक**  
ऐंद्रिक 268.11

**इंद्रियानुभूति**  
चेतना 263.4  
प्रत्यक्ष ज्ञान 305.5  
सौंदर्य बोध 398.2

**इंद्रियायतन**  
शरीर 139.1

**इंद्रियाराम**  
ऐंद्रिक सुख 390.5

**इंद्रियार्थ**  
इंद्रियार्थ 268.9 ⇨

**इंद्रियार्थ ज्ञान**  
प्रत्यक्ष ज्ञान 305.5

**इंद्रियार्थ सूची**  
इंद्रियार्थ सूची 268.10 ⇨

**इंद्रियों से परे**  
इंद्रियातीत 306.14

**इंद्री**  
इंद्रिय 268.1  
पुरुष जननेन्द्रिय 152.10

**इंद्रीय**  
ऐंद्र 773.53  
ऐंद्रिक 268.11

**इंध**  
अग्न्याधान 107.1  
इंधन 110.1

**इंधन**  
अग्न्याधान 107.1

**इंधीचर्म (अं)**  
महामियोग 875.6

**इंधीरियलिङ्ग (अं)**  
साम्राज्यवाद 884.12

**इंधोर्ट (अं)**  
आयातक 657.9

**इंध्रिट (अं)**  
मुद्रण छाप 419.6

**इंध्रिस्ट मनी (अं)**  
रोकड़ अग्रिम 630.11

**इंध्रफाल**  
मणिपुर राजधानी 28.55

**इंध्रा**  
पाठ 412.31

**इंध्रयोरॅस (अं)**  
बीमा 631.17

**इंध्रयोरॅस एजॅट (अं)**  
बीमा दलाल 631.22

**इंध्रयोरॅस पालिसी (अं)**  
बीमा पालिसी 631.20

**इंध्रयोरॅस ब्रोकॅर (अं)**  
बीमा दलाल 631.22

**इंध्रसर्ट करना**  
प्रविष्ट करना 1094.19

**इंध्रसान**  
मानय 128.1

**इंध्रसानी**  
मानवीय 128.11

**इंध्रसाक्र**  
न्याय 874.1

**इंध्रसाक्र का तराजू**  
न्याय तुला 874.2

**इंध्रसाक्र पसंद**  
न्यायप्रिय 874.36

**इंध्रसुलेटर**  
इंध्रसुलेटर 102.16 ⇨

**इंध्रसुलेटर (अं)**  
इंध्रसुलेटर 102.16

**इंध्रस्क्रिप्टान (अं)**  
उत्कीर्ण लेख 406.25

**इंध्रस्टालमॅट (अं)**  
धारावाही क्रिस्त 447.15

**इंध्रस्टिक (अं)**  
इंड 352.4

**इंध्रस्टीट्यूशन (अं)**  
सन्धान 692.3

**इंध्रस्ट्रक्टर (अं)**  
अनुदेशक 323.22

**इंध्रस्ट्रमॅट (अं)**  
उपकरण 558.7

**इंध्रकंग**  
शिय 767.1

**इंध्रक**  
एक 948.17

**इंध्रकट्टा रख कर बौधना**  
पैक करना 1014.6

**इंध्रकट्ट**  
ढेर 686.6  
समागमन 694.17

**इंध्रकट्टा [इंध्रकट्टा]**  
संग्रहित 669.19

**इंध्रकट्टा [इंध्रकट्टी]**  
एकत्रित 667.12  
समागत 694.31

**इंध्रकट्टा करना**  
एकत्रित करना 667.7  
केंद्रित करना 971.14  
संग्रह करना 669.18

**इंध्रकट्टे**  
अधिकत 944.11  
एकतापूर्वक 698.12  
एकबारगी 634.38  
एक बार में 72.5  
समूह 690.14

**इंध्रकट्टा करना**  
संयोजित करना 693.8

**इंध्रकसा [इंध्रकडी]**  
एक खडीय 938.51

**इंध्रकतरफ्रा**  
एकपाश्वीय 997.11

**इंध्रकतरफ्रापन**  
एकपाश्वीयता 997.3

**इंध्रकतार**  
संमिश्रित 1008.26

**इंध्रकतारा**  
एकतारा 461.24

**इंध्रकदान**  
उपक्रम 521.4

**इंध्रकडी**  
आना 829.9

**इंध्रकपहला [इंध्रकहली]**  
एकपाश्वीय 997.11

**इंध्रकपहलू**  
एकपाश्वीय 997.11

**इंध्रकपहिया ठेला**  
इंध्रकपहिया ठेला 1071.8 ⇨

**इंध्रकवारगी**  
अकस्मात 69.13

**इंध्रकबाल**  
अपराध स्वीकृति 876.9  
प्रताप 849.5

**इंध्रकबाल करना**  
अपराध स्वीकार करना 876.23

**इंध्रकबालिया गवाह**  
अपराधी साक्षी 876.15

**इंध्रकबालिया गवाही**  
अपराधी साक्ष्य 876.14

**इंध्रकबाली**  
अपराध स्वीकर्ता 876.28

**इंध्रकबाले जुर्म**  
अपराध स्वीकृति 876.9

**इंध्रकमजिला [इंध्रकमजिली]**  
एकखडीय 612.9

**इंध्रकरंगा [इंध्रकरंगी]**  
इंध्रकरंगा [इंध्रकरंगी] 289.71 ⇨

**इंध्रकरवी**  
संमिश्रित 1008.26

**इंध्रकरस**  
संमिश्रित 1008.26

**इंध्रकराम**  
ख्याति 847.1  
दया 834.1  
दान 64:1

**इंध्रकरामी**  
दानार्थी 641.22

**इंध्रकरार**  
अनुबंध 339.1  
ठेका 659.13  
वधन 339.15

**इंध्रकरारनामा**  
अनुबंध पत्र 339.2

**इंध्रकलसुरी [इंध्रकलसुरी]**  
इंध्रकलसुरा [इंध्रकलसुरी] 183.39 ⇨  
स्वार्थी 712.16

**इंध्रकलसुरापन**  
इंध्रकलसुरापन 183.2 ⇨

**इंध्रकलडी**  
एक लडी माला 228.40

**इंध्रकलीसिया**  
गिरजाघर 745.20

**इंध्रकलीता**  
इंध्रकलीता बेटा 718.6

**इंध्रकलीता [इंध्रकलीती]**  
एकमात्र 946.20

**इंध्रकलीतापन**  
एकमात्रता 946.10

**इंध्रकलीता बेटा**  
इंध्रकलीता बेटा 718.6 ⇨

**इंध्रकल्ला [इंध्रकल्ली]**  
एकमात्र 946.20

एकाकी 697.14  
**इकसार**  
 समकक्ष 851.5  
 समतल 986.9  
 सम्मिश्रित 1008.26  
**इकहरा शरीर**  
 छरहरा शरीर 154 11  
**इकहरी गीत**  
 इकहरी गीत 572.3 ⇨  
**इकहरे शरीर वाला**  
 छरहरा 154 30  
**इकहरे शरीर वाली**  
 छरहरी 154 31  
**इकहेजवी**  
 एक बार विवाहित 799.68  
**इकहेजिया**  
 एक बार विवाहित 799 68  
**इकहेजू**  
 एक बार विवाहित 799.68  
**इकाई**  
 इकाई. स्थान 948 8  
 वैयक्तिकता 689.2  
 व्यक्ति 889 1  
 सघटक 545.3  
**इकाईवाद**  
 इकाईवाद 884 15 ⇨  
**इकाई: स्थान**  
 इकाई स्थान 948 8 ⇨  
**इकीस**  
 इकीस 948.57 ⇨  
**इकोतर**  
 एकोत्तर 940 11  
**इकोत्तर**  
 एकोत्तर 940 11  
**इकोनमी साइज़**  
 इकोनमी साइज़ 961 14 ⇨  
**इकोनमी साइज़ (अँ)**  
 इकोनमी साइज़ 961 14  
**इक्कल दुक्कल**  
 इक्कल दुक्कल 476 3 ⇨  
**इक्का**  
 इक्का 1071 37 ⇨  
 एक उपमान सूची 948 18  
 पृथकधर 697.12  
**इक्का बालक**  
 इक्केवान 1079 6  
**इक्का दुक्का [इक्की दुक्की]**  
 अल्प 942 13  
**इक्कीस**  
 अधिक 944.5  
 इकीस 948.57  
 उत्तमतर 313.12  
**इक्कीसवीं सदी**  
 आधुनिक काल 76.9  
**इक्के बुक्के**  
 अल्पदा 72.10  
**इक्केवान**  
 इक्केवान 1079.6 ⇨

**इक्षुज**  
 गुड़ 280 14  
**इक्षु मेह**  
 मधुमेह 163 34  
**इक्षुरस**  
 शीरा, 280 10  
**इक्षु सागर**  
 सप्त सागर सूची 24 22  
**इक्ष्वाकु**  
 इक्ष्वाकु 770 18 ⇨  
**इक्ष्वाकु वंश**  
 सूर्य वंश 731.23  
**इक्ष्वालास**  
 पापहीनता 813 1  
**इक्ष्तिवार**  
 अधिकार 897 1  
**इक्ष्तिलाफ़**  
 खटपट 708 3  
**इक्ष्तिलाफ़े राय**  
 मतभेद 338 4  
**इगारह**  
 ग्यारह 948 40  
**इग्नाइटर (अँ)**  
 अग्नित्र 107 5  
**इग्नित्र (प्र)**  
 अग्नित्र 107 5  
**इग्यारह**  
 ग्यारह 948 40  
**इगवाना (अँ)**  
 गोह 123 4  
**इच्छक**  
 इच्छुक 359 21  
**इच्छद**  
 इच्छा पूरक 361 14  
**इच्छनीय**  
 इच्छनीय 359 20 ⇨  
**इच्छा**  
 अपेक्षा 359 3  
 इच्छा 359 1 ⇨  
 काम वासना 237 5  
 दोहद 798 5  
 प्रत्याशा 375 5  
 प्रयोजन 508.1  
 प्रवृत्ति 502.1  
 मोग 856.1  
 रुचि 400 1  
 विवेकाधिकार 897 3  
**इच्छा अपूर्ति**  
 इच्छा अपूर्ति 362.1 ⇨  
**इच्छा अरामन**  
 इच्छा अपूर्ति 362 1  
**इच्छा करना**  
 इच्छा होना 359 10  
**इच्छा कर्ता**  
 इच्छुक 359.21  
**इच्छागामी**  
 इच्छागामी 1091.11 ⇨

**इच्छाचारी**  
 इच्छागामी 1091 11  
**इच्छा जन्मा**  
 कामदेव 773.12  
**इच्छा दवाना**  
 इन्द्रिय निग्रह करना 364 7  
**इच्छाधीन**  
 वैकल्पिक 516 4  
**इच्छा न करना**  
 इच्छा न करना 360.6 ⇨  
**इच्छा निग्रह**  
 इन्द्रिय निग्रह 364 4  
**इच्छा निवृत्ति**  
 विरक्ति 366 2  
**इच्छानुकूल**  
 इच्छानुसार 359 22  
**इच्छानुकूलतः**  
 इच्छापूर्वक 359 34  
 स्वेच्छापूर्वक 650 30  
**इच्छानुपत्र**  
 रिक्त अनुपत्र 623 15  
**इच्छानुरूप**  
 प्रत्याशित 375 9  
**इच्छानुसार**  
 अनिच्छित 880 15  
 इच्छानुसार 359 22 ⇨  
**इच्छानुसार कार्याधिकार**  
 विवेकाधिकार 897 3  
**इच्छानुसारतः**  
 इच्छापूर्वक 359 34  
**इच्छापत्र**  
 मृत्यु पत्र 623 17  
**इच्छा पूरक**  
 इच्छा पूरक 361 14 ⇨  
**इच्छा पूरक मणि**  
 धितामणि 96 18  
**इच्छा पूरी करना**  
 इच्छा पूरी करना 361 8 ⇨  
 वर देना 145  
**इच्छा पूरी न होना**  
 इच्छा पूरी न होना 362.3 ⇨  
**इच्छा पूरी होना**  
 इच्छा पूरी होना 361.7 ⇨  
**इच्छापूर्णा**  
 इच्छापूर्णा 359.18 ⇨  
**इच्छा पूर्ति**  
 इच्छा पूर्ति 361.1 ⇨  
 मत्रत पूर्ति 361.4  
**इच्छा पूर्ति कामना**  
 मत्रत 361 3  
**इच्छा पूर्ति यज्ञ**  
 इच्छा पूर्ति यज्ञ 361.2 ⇨  
**इच्छापूर्वक**  
 इच्छापूर्वक 359.34 ⇨  
**इच्छा प्राप्ति**  
 इच्छा पूर्ति 361.1  
**इच्छारूप**  
 कामरूपी 532.21

**इच्छारूपता**  
 कामरूपता 532 10  
**इच्छारूपी**  
 कामरूपी 532 21  
**इच्छार्थ**  
 उद्देश्य 508 2  
**इच्छानु**  
 इच्छुक 359 21  
**इच्छावती**  
 कामुकी 237 15  
 दोहदवती 798 41  
**इच्छा वसु**  
 अति धनाढ्य 626.15  
 कुबेर 779.4  
**इच्छा: विषय**  
 उद्देश्य 508 2  
**इच्छा सिद्धि**  
 इच्छा पूर्ति 361 1  
**इच्छा से**  
 इच्छापूर्वक 359.34  
 स्वेच्छापूर्वक 650 30  
**इच्छाहीन**  
 इच्छाहीन 360.9 ⇨  
**इच्छाहीन (दे.)**  
 कामहीन 237 17  
**इच्छाहीनतः**  
 इच्छाहीनतः 360.21 ⇨  
**इच्छाहीनता**  
 इच्छाहीनता 360.1 ⇨  
**इच्छा होना**  
 इच्छा होना 359 10 ⇨  
**इच्छित**  
 इच्छित 359.19 ⇨  
**इच्छित होना**  
 अपेक्षित होना 359.11  
**इच्छीय**  
 ऐच्छिक 359.17  
**इच्छुक**  
 इच्छुक 359.21  
**इच्छुक**  
 इच्छुक 359.21 ⇨  
**इजलास**  
 अधिवेशन 694 14  
 न्यायालय 874.5  
 राज दरबार 889.14  
 सभा 694.1  
 समारोह 694 15  
**इजहार**  
 अभिव्यक्ति 428 1  
 प्रदर्शन 285.1  
**इजाज़त**  
 अनुमति 337.5  
**इजाज़ा**  
 वृद्धि 979.4  
**इजाज़**  
 पाजाभा 586 7  
**इजाज़बंद**  
 नाज़ा 571.10

## इजारा

### इजारा

- अधिकार 897 1
- अधिकार दावा 897 5
- अधिभाग पत्र 622 4
- एकाधिकार 621 10
- ठेका 659 13

### इजारेदार

- अधिकार दावेदार 897 18
- पट्टेदार 622 21

### इजारेदारी

- ठेकेदारी 659 12
- पट्टेदारी 622 5

### इज्जत

- आदर 854 1

### इज्जत

- प्रतिष्ठा 849 2

### इज्जत अफ़जाही

- आदर प्रदान 854 2

### इज्जत आवक

- मान प्रतिष्ठा 849 1

### इज्जत उतारना

- मानहानि करना 855 7

### इज्जतदार

- प्रतिष्ठित 849 15

### इज्जत बख़्शाना

- आदर करना 854 15

### इज्ज (अँ)

- वाद 343 10

### इज्या

- पूजा 751 1
- यज्ञ 753 1

### इच्चाईल

- मीत फरिश्ता 256 9

### इटलीयाद

- फ़ारसीयाद 884 35

### इट्टा नगर

- अरुणाचल राजधानी 28 10

### इट्टालिक

- इटैलिक्स 413 14

### इट्टालियन

- धिकना वस्त्र 579 5

### इट्टैलिक्स

- इटैलिक्स 413 14 ⇨

### इट्टैलिक्स (अँ)

- इटैलिक्स 413 14

### इट्ट्शर

- व्याभिचारी 806 10

### इट्ट्शर

- साँड़ 127 12

### इट्टलाऊ

- इतराऊ 860 20

### इट्टलावे

- शिथिल गति से 1045 17

### इट्टलाना

- अभिमान से चलना 1084.28
- इतराना 860 15
- दुमकना 1084.31
- शिथिल गमन करना 1045.9

### इट्टलाहट

- अभिमान गति 1084 2
- इतराहट 860 5
- दुमक 1084 8

### इट्टड

- अह तत्त्व 351 3
- इट्टड 352.4 ⇨

### इट्टडपति

- पूषा 773 37
- विष्णु 768 1

### इट्टडली

- इट्टडली 202 9 ⇨

### इट्टडविद्या

- ऋषि स्त्री सूची 789 25

### इट्टडा

- इट्टडा 352 4
- इट्टडा नाड़ी 757 3
- गाय 127 10
- दुर्गा 776 7
- पृथ्वी 9 1

### इट्टडा नाड़ी

- इट्टडा नाड़ी 757 3 ⇨

### इट्टडा-पिंगला-सुषुम्ना संगम

- इट्टडा-पिंगला-सुषुम्ना संगम 757.2 ⇨

### इट्टडा मनु

- प्रथम स्त्री पुरुष मान्यता सूची 236 2

### इट्टत

- इधर 30 6
- इतना [इतनी] 946.12 ⇨
- मात्रा में नियत 946 17

### इतनापन

- इतनापन 946 2 ⇨

### इतनी देर में

- अवधि में 39 11

### इतने में

- अवधि में 39.11

### इतमीनान

- विश्वसनीयता 340 2
- विश्वास 340 1
- शांति काल 906 1
- संदेहहीनता 340 6
- सात्व्यता 393.4
- सुरक्षा 908 4

### इतर

- अतिरिक्त 945 4
- असदृश 310 6
- इतर 945.5 ⇨
- इत्र 274.8
- मित्र कोटीय 936.10
- सुगंध 273 4

### इतरतः

- अन्यथा 514.25

### इतरता

- असादृश्य 310.1
- इतरता 945.2 ⇨
- परजन भावना 725.4

### इतराऊ

- इतराऊ 860 20 ⇨
- इतरा कर बात करना
- गाल बजाना 842.8

### इतराना

- इतराना 860.15 ⇨
- गाल बजाना 842 8

### इतराहट

- इतराहट 860 5 ⇨

### इतरैतर

- पारस्परिक 703 10

### इतरैतरता

- परस्परता 703 1

### इतयार

- रवियार 46 3

### इति

- अत 995 1
- अध्याय समापन सूचना 447 5
- अलं 941 10
- इतना [इतनी] 946.12
- कार्य समाप्ति 522 1
- घट्ट कला सूची 8 4
- नाश 531 1
- पुस्तक अत 447 13
- मात्र 946 19
- मृत्यु 249 1
- समापन उक्ति सूची 522 7
- समाप्ति 942 6

### इतिकरणीय

- करणीय 505 18

### इतिकरणीयता

- करणीयता 505.3

### इतिकर्तव्य

- करणीय 505 18

### इतिमात्र

- मात्र 946 19

### इतिवृत्त

- इतिहास 76 1
- इतिहास कथा 450 15
- कथा कृति 450.3
- कथायस्तु 466 6
- डायरी 41 5
- पुरा कथा 450.13
- वृत्तांत 449 14

### इति श्री

- समापन उक्ति सूची 522.7

### इतिहास

- अतीतता 83.3
- इतिहास 76.1 ⇨
- परंपरा 795.1

### इतिहास कथा

- इतिहास कथा 450.15 ⇨

### इतिहास काल

- इतिहास काल 76.2 ⇨

### इतिहास क्रम

- काल क्रम 991.8

### इतिहास क्रमानुसार

- काल क्रमानुसार 991.31

### इतिहास क्रमिक

- काल क्रमिक 991.24

### इतिहास क्रमेण

- काल क्रमानुसार 991.31

### इतिहास पुराण

- पुराण 740 15

### इतिहास युग

- इतिहास काल 76.2

### इत्तफ़ाऊ

- अप्रत्यक्षित घटना 75 6

- एकता 698 1

- संयोग 69 1

- सर्व सहमति 337 4

### इत्तफ़ाऊन

- संयोगवश 69.12

### इत्तफ़ाऊकिया

- आकस्मिक 69 10

### इत्तला

- सूचना 441 1

### इत्ता (इस्ती)

- इतना [इतनी] 946 12

### इत्तिलानामा

- हैडबिल 442.12

### इत्तिहाद

- एकता 698.1

### इत्तपल

- इत्तपल 941 11 ⇨

### इत्त्यादि

- इत्त्यादि 945 12 ⇨

### इत्त्याधिक

- इत्त्यादि 945 12

### इत्र

- इत्र 274.8 ⇨

### इत्रदान

- इत्रदान 274 9 ⇨

### इत्रदानी

- इत्रदानी 274 10 ⇨

### इत्र करीषा

- इत्र व्यापारी 274 29

### इत्र व्यापारी

- इत्र व्यापारी 274.29 ⇨

### इत्वर

- यात्री 1087 2

- हिजड़ा 238.5

### इत्तरी

- अभिसारिका 237.4

- व्याभिचारिणी 806.11

### इथ इति

- आरंभ अंत 994.1

### इथं

- यह 318.11

### इथंसन

- वर्तमान कालीन 36.21

### इथारा

- कंपनी 692.4

- कार्यालय 654.3

- विभाग 937.3

- संस्था 692.1

- इबारत**  
संस्थानीय 692.31
- इबत**  
इबत 804.10 ⇨
- इब**  
अग्न्याधानित 107.13  
ताप 103.1
- इबर**  
अवधि में 39.11  
इबर 30.6 ⇨  
इस पार 998.6  
उस पार 998.7  
निकट में 31.9  
यहाँ 30.5
- इबर उधर**  
आड़े तिरछे 1026.12  
क्रमहीनतः 992.7  
घतुदिशतः 29.36  
दक्षिण वाम पार्श्व में 997.24  
निकट में 31.9  
विपरीतता. उपमान सूची 310.13  
विमर्श 330.11  
सुलभतः 943.7
- इबर उधर की बात**  
गपराप 435.6
- इबर उधर गति**  
पँडुलम गति 1035.9
- इबर उधर नहीं**  
लक्ष्य पर 931.26
- इबर की उधर लगाना**  
कलह करवाना 708.10
- इबर की बात उधर करना**  
सुगली करना 843.19
- इबर के उधर तक**  
आरंपार 998.5
- इबरला [इबरली]**  
निकट तटवर्ती 25.33
- इबर से उधर तक**  
आरंपार 1097.23
- इबर से उधर तक होना**  
आरंपार होना 998.2
- इध**  
ईधन 110.1  
समिधा 753.29
- इध**  
इध 318.13 ⇨
- इध (अ)**  
प्रवेश मार्ग 1094.8  
प्रवेश संकेत सूची 1094.31
- इधकन टैक्स (अ)**  
आय कर 647.10
- इधकार**  
अपराध अस्वीकृति 876.10  
अस्वीकृति 338.1  
नास्तिकतावाद 760.14  
मतभेद 338.4  
मुकरण 338.10  
स्पष्ट अस्वीकृति 338.2
- स्पष्ट उत्तर 334.4
- इधकारी**  
अपराध अस्वीकृति 876.10  
अस्वीकृति 338.1  
इधकारिणेशन (अ)  
लिमिटेड कंपनी 692.5
- इध को**  
इन्हे 316.34
- इधकवायरी (अ)**  
तथ्यान्वेषण 336.1
- इधकवायरी कमीशन (अ)**  
तथ्यानवेषण आयोग 336.2
- इधगीट (अ)**  
धातु पिंड 976.11
- इधगार्ज (अ)**  
अध्यक्ष 652.14  
कार्याध्यक्ष 652.17
- इधटोनेशन (अ)**  
काकु 465.14
- इधडाइरेक्ट टैक्स (अ)**  
अप्रत्यक्ष कर 647.5
- इधर्ट (अ)**  
जावक पत्र 1054.7
- इधडोर स्टेडियम**  
इधडोर स्टेडियम 482.20 ⇨
- इधडोर स्टेडियम (अ)**  
इधडोर स्टेडियम 482.20
- इध दिनों**  
वर्तमान मे 36.33
- इधन**  
इन्हे 316.34
- इधनरंस (अ)**  
अध्याहरण 325.10
- इधनगार्मेशन (अ)**  
सूचना 441.1
- इधन्रीरियरिटी कंपनीक्स (अ)**  
हीनता ग्रंथि 352.8
- इधनक्रेशन (अ)**  
रोग संक्रमण 169.8
- इधनक्रोमेशन (अ)**  
परिज्ञान 305.13
- इधनक्रोमेशन टेक्नोलोजी (अ)**  
सूचना तकनीक 441.3
- इधनक्रोमेशन हाइब्रे (अ)**  
इंटरनेट 444.31
- इधनक्रोमेशन हाइब्रे (अ)**  
सूचना महापथ 441.4
- इधनक्रोमेली (अ)**  
अनीपचारिकतः 185.11
- इधन्रीडिंग (अ)**  
अंतः प्रजनन 243.4
- इधन्रीयल क्रोस (अ)**  
जड़त्वीय बल 1050.5
- इधलेअर (अ)**  
पच्चीकार 406.33
- इधलेइंग (अ)**  
पच्चीकारी 406.32  
विजडन 1016.1
- इधले करना**  
विजडित करना 1016.36
- इधलेड (अ)**  
पच्चीकृत 406.43  
विजडित 1016.42
- इधले वर्क (अ)**  
पच्चीकारी कृति 406.34
- इधवाइट करना**  
निर्मत्रित करना 1056.5
- इधविजिलेटर**  
इधविजिलेटर 322.38 ⇨
- इधविजिलेटर (अ)**  
इधविजिलेटर 322.38
- इधविजिलेशन**  
इधविजिलेशन 322.18 ⇨
- इधविजिलेशन (अ)**  
अन्वीक्षण 284.20  
इधविजिलेशन 322.18
- इधवीटर (अ)**  
आयिष्कर्ता 307.18
- इधवीटिड (अ)**  
आयिष्कृत 307.17
- इधवीशन (अ)**  
आयिष्कार 307.5
- इधवीस्टिंगेशन (अ)**  
तथ्यान्वेषण 336.1
- इधवीइस (अ)**  
जावक पत्र 1054.7
- इधवर्ट (अ)**  
प्रविष्टक 1002.8
- इधसान**  
माध्य 128.1
- इधसान इवान**  
विपरीतता उपमान सूची 310.13
- इधसानियत**  
दयालुता 834.4  
मानव जाति 128.2  
मानवीयता 733.3  
सहानुभूति 393.3
- इधसाननी**  
मानवीय 733.14  
मानवीय 128.11
- इधसाक्र**  
न्याय 874.1
- इधसिग्निया (अ)**  
प्रतीक चिह्न 408.2
- इधसेक्ट (अ)**  
कीट 122.9
- इधसेट (अ)**  
मध्यक 1002.9
- इधसेनिटी (अ)**  
पागलपन 354.14
- इधना गिना [इनी गिनी]**  
अल्प 942.13
- इधनाम**  
पुरस्कार 857.1  
बख्शीश 640.8
- इधनाम इकराम**  
बख्शीश 640.8  
सम्मान उपहार 854.4
- इधनामदार**  
लगानमुक्त कृषि धारी 553.5
- इधनामल**  
इधनामल 290.11 ⇨
- इधनामल (अ)**  
इधनामल 290.11
- इधनामी**  
लगानमुक्त कृषि 553.4
- इधनामी प्याला**  
कप 857.16
- इधनायत**  
कृपापूर्वक प्रदान 638.2  
दया 834.1
- इधनायत करना**  
कृपापूर्वक देना 638.8
- इधनारा**  
कृप 19.3
- इधनिग्स (अ)**  
पारी 70.9
- इधने गिने**  
अल्प 942.13
- इधनीर्गनिक कैमिकल्स (अ)**  
अकार्बनिक रसायन 87.2
- इधन्युबस (अ)**  
काम राक्षस 785.6
- इधनीर्गटैक्स (अ)**  
सूचना विज्ञान 441.2
- इधन्युस्टर्ट (अ)**  
पूँजी निवेश 628.11
- इधन्सान**  
मानव 128.1
- इधन्हें**  
इन्हें 316.34 ⇨
- इधनों**  
इधन 316.13
- इधनतार**  
रोज़ा इधतार 748.11
- इधनरात**  
अत्यधिकता 944.2  
समृद्धि 626.1  
सुलभता 943.2
- इधनलास**  
निर्धनता 627.5
- इधनतारना**  
उपवास अंत करना 748.18
- इधनतारी**  
उपवास. अंत भोजन 748.15  
रोज़ा इधतार 748.11
- इध**  
वर्तमान में 36.33
- इधतिबाई**  
आर्थिक 994.16
- इधरत**  
शिक्षा 321.1

## इबलीस

- इबलीस**  
शीतान 785 1
- इबादत**  
पूजा 751 1
- इबादतकदा**  
उपासनालय 745 13  
मसजिद 745 17
- इबादतगार**  
पूजक 751 3
- इबादतगाह**  
उपासना स्थल 745 15  
मसजिद 745 17
- इबारत**  
पाठ 412 31  
वाक्य रचना 424.2
- इब्रिदा**  
आरभ 994 3  
कार्य आरंभ 521 1
- इब्न**  
पुत्र 718 3
- इब्ने खुदा**  
ईसा 791 8
- इब्ने मरियम**  
ईसा 791.8
- इब्राहिम**  
अब्राहम 791 4
- इभ**  
हाथी 127 38
- इभराज**  
ऐरावत 780.5
- इभानन**  
गणेश 773 22
- इभी**  
मादा हाथी 127 39
- इभोषणा**  
गज पिप्पली 281 14
- इभ्य**  
महावत 1082 15
- इभ्या**  
मादा हाथी 127 39
- इभकान**  
सभायना 68 1  
संभावना लक्षण 68.3
- इभबाध**  
सहयोग 700 1
- इभबादी**  
सहयोगपूर्ण 700 19
- इभरतबान**  
मरतबान 678 11
- इभरती**  
इभरती 203 2 ⇨
- इभला**  
श्रुतिलेख 412 16
- इभली**  
इभली 277 8 ⇨
- इभल्थान**  
इभल्थान 290.12 ⇨

- इभल्थान (अँ)**  
इभल्थान 290 12
- इभान हुसैन**  
पजतन सूची 791 17
- इभाम**  
इभाम 744 16 ⇨  
नेता 346 2
- इभामदस्ता**  
इभामदस्ता 560.9 ⇨
- इभाम बाड़ा**  
ताज़िया. दफ़नगाह 254 17
- इभाम: भाषण**  
नमाज़ उपदेश 751 12
- इभाम हसन**  
पजतन सूची 791 17
- इभाम हुसैन**  
हुसैन 791.28
- इभाम हुसैन: शाहादत मास**  
मुहर्रम 57 51
- इभाम हुसैन: शाहादत रात**  
राते शाहादत 57.53
- इभारत**  
इभारत 602 6 ⇨
- इभारती काम**  
निर्माण उद्योग 599.8
- इभारती ठेकेदार**  
निर्माण उद्यमी 599 9
- इभि**  
सादृश्य उक्ति सूची 309.26
- इभिग्रेशन (अँ)**  
आप्रवासन 618.5
- इभिग्रेंट (अँ)**  
आप्रवासी 618 30
- इभेज (अँ)**  
चित्र 404.1  
फ़ोटो 405.1
- इभ्तहान**  
परीक्षा 322.11  
शिक्षा परीक्षा 322 13
- इभ्तहान में बैठना**  
परीक्षा देना 322 34
- इभ्यू (अँ)**  
उड़ानहीन पक्षी सूची 128.5
- इयत**  
इतना [इतनी] 946 12  
मात्रा में नियत 946.17
- इयत्ता**  
अंत 995.1  
इतनापन 946.2  
मात्रा 946.3  
संख्या 948 1
- इयर (अँ)**  
शिक्षालय वर्ष 322.9
- इयर बुक**  
इयर बुक 993.14 ⇨
- इयर बुक (अँ)**  
इयर बुक 993.14

- इरम्बद**  
अग्नि 108.1  
बड़या दीप्ति 287.18  
मेघ विद्युत 55.9
- इरला [इरली]**  
इस पार का 998.3  
निकट तटवर्ती 25.33
- इरा**  
इरा 787 10 ⇨  
सरस्वती 775 8
- इरादतन**  
प्रयोजनत 508.11  
संकल्पपूर्वक 500 16
- इरादा**  
इच्छा 359 1  
उद्देश्य 508.2  
प्रयोजन 508.1  
विचार 330 1  
सकल्प 500.1
- इरावा बौधना**  
सकल्प करना 500.6
- इरादे का पक्का**  
अविचल 500.15
- इरादे बौधना**  
दिवा स्वप्न देखना 267.7
- इरादे से,**  
सकल्पपूर्वक 500 16
- इरा पिरा [इरी पिरि]**  
ताने बाने की तरह बुना 576.29
- इरायली**  
दुर्गा 776 7
- इराबली: पुत्र**  
ऐरावत 780.5
- इरायान**  
मेघ 55 1
- इरिण**  
ऊसर 552.3  
मरुथल 11.11
- इरे**  
इस पार 998.6
- इरेश**  
ब्राह्मण 731.13  
वरुण 773 43  
विष्णु 768.1
- इर्वगिर्व**  
निकट में 31.9  
पड़ोस 31.3
- इर्बाक**  
ककड़ी 190 12
- इलज़ाम**  
आरोप 875.7
- इलबिला**  
कुबेर: माता 779.6
- इलस्ट्रेटर**  
इलस्ट्रेटर 404.26 ⇨
- इलस्ट्रेटर (अँ)**  
इलस्ट्रेटर 404.28

- इलस्ट्रेटेशन कर्मी**  
इलस्ट्रेटर 404.28
- इलहाम**  
अतरात्मा: आदेश 351.5  
ईश्वरीय संदेश 443 6
- इलहामी**  
पैगंबर विषयक 791.29
- इलहामी किताब**  
अपीरुधेय धर्मग्रंथ 738.3
- इला**  
इला नाकी 757 3  
इरा 787.10  
इलायधी 281 8  
पृथ्वी 9 1
- इलाक़ा**  
क्षेत्र 34 1  
जागीर 553 16
- इलाक़ाई**  
क्षेत्रीय 34.14
- इलाज**  
आरोग्य लाभ 171 11  
धिकित्सा 171 1
- इलाधर**  
पर्वत 16.3
- इलायधी**  
इलायधी 281.8 ⇨  
पाने मसाला सूची 213.20
- इलास्टिक**  
इलास्टिक 1050.13 ⇨
- इलास्टिक (अँ)**  
इलास्टिक 1050.13  
प्रतिकर्ष्य 1050.35
- इलास्टिक की तरह खिंचना**  
प्रतिकर्षित होना 1051.25
- इलास्टिसिटी (अँ)**  
प्रतिकर्षण 1050.12
- इलाह**  
अल्लाह 764.12
- इलाहाबाद**  
गंगा-यमुना संगम 20.13
- इलाहियात**  
अध्यात्म 761.1
- इलाही**  
अल्लाह 764.12  
अल्लाही 764.38
- इली**  
धातु मैकी लाठी 923.10  
लाठी 923.9
- इलीश**  
हिलसा 125.16
- इल्यूनन (अँ)**  
ज्ञान दर्शन 342.3
- इलीक्टोरल अर्लीचमी (अँ)**  
निर्वाचक सभा 888.8
- इलीक्टोरल कालिज (अँ)**  
निर्वाचक मंडल 888.7
- इलीक्टोरल रोल (अँ)**  
निर्वाचक सूची 888.9



- इलेक्टोरेट (अँ)**  
निर्वाचक समष्टि 888 6
- इलेक्ट्रा ग्रिडि**  
वित्तु ग्रिडि 352 9
- इलेक्ट्रिक ट्रेन (अँ)**  
बिजली. रेलगाड़ी 1071 67
- इलेक्ट्रिक मोटर (अँ)**  
विद्युत इंजन 1078.2
- इलेक्ट्रिक शौक (अँ)**  
शौक 101 10
- इलेक्ट्रिसिटी (अँ)**  
विद्युत 102 1
- इलेक्ट्रोक्लोरान सेअर (अँ)**  
बिजली कुरसी 871 15
- इलेक्ट्रोनिक मेल (अँ)**  
ई-मेल 444 32
- इलेक्ट्रोप्लेटिंग**  
इलेक्ट्रोप्लेटिंग 292 5 ⇨
- इलेक्ट्रोप्लेटिंग (अँ)**  
इलेक्ट्रोप्लेटिंग 292 5
- इलेक्ट्रोस्टैट (अँ)**  
फोटोस्टैट 414 7
- इलेक्ट्रोन**  
इलेक्ट्रोन 78 12 ⇨
- इलेक्ट्रोन (अँ)**  
इलेक्ट्रोन 78 12
- इलेक्शन (अँ)**  
निर्वाचन 888 1
- इलेक्शन कमिश्नर (अँ)**  
निर्वाचन आयुक्त 888.13
- इलेक्शन कमीशन (अँ)**  
निर्वाचन आयोग 888 12
- इलज़ाम**  
आरोप 875 7
- इल्लिजा**  
विनम्र निवेदन 350 2
- इल्म**  
ज्ञान 305.1  
तकनीक 514 4  
बोध 301.9  
विद्या 318 1  
शिक्षा 321.1
- इल्मी**  
शैक्षिक 321 37
- इल्युमिनो मोटर (अँ)**  
प्रभास मापी 958.53
- इल्सत**  
कुव्यसन 812 7  
खटाराग 747 4  
रोग 163.1
- इल्सा बिल्सा**  
भर्त्सना: उद्गार सूची 843 28
- इल्लिनरा**  
हिलसा 125.18
- इल्सी**  
लार्वा 242.6
- इल्यल**  
दानव सूची 783 13,
- दैत्य सूची 783 19
- इल्यल बल्यल**  
असुरादि जोड़ी सूची 783 4
- इय**  
सादृश्य उक्ति सूची 309 26
- इयोल्यूशन (अँ)**  
उद्विकास 534 7
- इशरतगाह**  
ऐश्वर्य भवन 602 12
- इशा**  
रात 48 1
- इशारा**  
अगुली संकेत 29 26  
निदेश 347 2  
नेत्र मुद्रा 464 32  
पहेली संकेत 333 16  
संकेत 422 4
- इशारा करना**  
निदेशन करना 347 9
- इशू (अँ)**  
पत्र पत्रिका अंक 445 3
- इशक**  
प्रेम 368 1  
रोमांस 368 9
- इशकबाज़**  
प्रेम प्रवण 368 22
- इशकबाज़ी**  
रोमांस 368 9
- इशक मज़ाज़ी**  
मानव प्रेम 368 7
- इशक लकाना**  
प्रेम करना 368 13
- इशक हज़ीक़ी**  
ईश्वर प्रेम 368 6  
प्रेम भाव 752.15
- इरितयाक़**  
इच्छा 359 1
- इरितहार**  
विज्ञापन 442 3  
विज्ञापन कृति 442 5  
हैंडबिल 442.12
- इशु**  
पाँच उपमान सूची 948 26  
बाण 926 16
- इशुधर**  
धनुषधारी 930 13
- इशुधि**  
तरकस 926 22
- इष्ट**  
अनुकूल 885 37  
अपेक्षित 359.24  
अवसरानुकूल 70.14  
इच्छित 359.19  
एरड 196.16  
कल्याण 710.2  
कल्याणकारी 710.21  
पर्याप्त 941.6  
पसंद 400.11
- प्रयोजन 508 1  
प्रिय 369 7  
रोचक 400 12  
यरदान 714 1  
विष्णु 768 1  
शिय 767 1  
हित 712 1
- इष्टकर**  
हितकारी 712 13
- इष्ट कामना**  
कल्याण कामना 710.4
- इष्ट ग्रह योग**  
इष्ट योग 261 29
- इष्टधितक**  
कल्याण कामी 710 23
- इष्टता**  
अयसरानुकूलता 70 2  
कल्याणकारिता 710 3
- इष्टदेव**  
इष्ट देवता 772 23
- इष्ट देवता**  
इष्ट देवता 772 23 ⇨
- इष्ट देवी**  
इष्ट देवी 774 3 ⇨
- इष्ट योग**  
इष्ट योग 261 29 ⇨
- इष्टलाभ**  
इच्छा पूर्ति 361 1  
सफलता 512 1
- इष्टि**  
इच्छा 359 1
- इष्टिका**  
ईट 599 31
- इष्टिकान्यास**  
नीवेँ रखाई 599 23
- इष्टिपशु**  
बलि पशु 754 10
- इश्यास**  
धनुष 926 8
- इस**  
गक 316 11
- इस अवधि में**  
अवधि में 39.11
- इस अवसर पर**  
संदर्भत 437 18
- इस ओर**  
इधर 30 6  
इस पार 998 6  
सीमा के इस ओर 100: 45
- इस कारण**  
इस लिए 507 10  
कारणत 507.7
- इस काल में**  
अवधि में 39.11
- इस किनारे**  
इस पार 998 6  
इस के आगे नहीं  
सीमा तक 1001 44
- इस के उपरांत**  
इस के उपरांत 39 19 ⇨
- इस के चलते**  
संदर्भवरा 437 17
- इस के पूर्व**  
इस के पूर्व 60.20 ⇨
- इस के बाद**  
इस के उपरांत 39 19
- इस को**  
इसे 316.33
- इस तरफ़**  
सीमा के इस ओर 1001 45
- इस तरह**  
ऐसे 514 23
- इस दौरान**  
अवधि में 39 11
- इस निमित्त**  
इस लिए 507 10
- इस पर भी**  
यद्यपि 507 14
- इसपात**  
इस्पात 93 11
- इस पार**  
इस पार 998 6 ⇨  
निकटस्थ तट 25 15  
सीमा के इस ओर 1001 45
- इस पार का**  
इस पार का 998 3 ⇨
- इस पार या उस पार**  
जय या पराजय 912 22
- इस प्रकार**  
ऐसे 514 23
- इस प्रकार का**  
ऐसा 317 30
- इस बहाने**  
इस लिए 507 10
- इस बाबत**  
संदर्भत 437 18
- इस बार**  
इस बार में 72 8
- इस बार में**  
इस बार में 72 8 ⇨
- इस बारे में**  
संदर्भत 437 18
- इस बीच**  
अवधि में 39 11
- इसमाइली**  
इसमाइली 736.5 ⇨
- इस मीक़े पर**  
संदर्भत: 437.18
- इसराज**  
इसराज 461.23 ⇨
- इसराार**  
आग्रह 349 1
- इसलाम**  
इसलाम धर्म 738 1  
इसलाम धर्म  
इसलाम धर्म 736.1 ⇨

## इसलाम धर्मावलंबी

**इसलाम धर्मावलंबी**  
मुसल्लिम 736.2

**इसलाम बलि:** गाय  
इसलाम बलि गाय 754 17 ⇨

**इसलामबाद**  
इसलामवाद 884 24 ⇨

**इसलामी**  
इसलामी 736 29 ⇨

**इसलामी धर्मग्रंथ**  
इसलामी धर्मग्रंथ 739 1 ⇨

**इसलामी धर्माधिकारी**  
इसलामी धर्माधिकारी 744.14 ⇨

**इसलामी धर्मोपदेश**  
इसलामी धर्मोपदेश 742 6 ⇨

**इसलामी धर्मोपदेशक**  
इसलामी धर्मोपदेशक 742 24 ⇨

**इसलामी धार्मिक पाठशाला**  
इसलामी धार्मिक पाठशाला 742 3 ⇨

**इसलामी धरंपरा**  
इसलामी धरंपरा 795 7 ⇨

**इसलामी पूजा गीत सूची**  
इसलामी पूजा गीत सूची 749 27 ⇨

**इसलामी पूजा स्थल**  
मसजिद 745 17

**इसलामी मठ**  
इसलामी मठ 745 9 ⇨

**इसलामी विधि**  
इसलामी विधि 878 7 ⇨

**इसलामी विवाह**  
इसलामी विवाह 799 3 ⇨

**इसलामी संवत**  
हिजरी संवत 42 7

**इसलामी सरकार**  
इसलामी सरकार 798 25 ⇨

**इसलामी साधारण जन**  
इसलामी साधारण जन 743 2 ⇨

**इसलामी साधु**  
इसलामी साधु 790 23 ⇨

**इसलाम**  
उप संपादन 445 12

**इस लिए**  
इस लिए 507 10 ⇨

**इस विधि**  
ऐसे 514.23

**इस समय**  
वर्तमान मे 36 33

**इस से आगे**  
इस के उपरांत 39 19

**इस से तो**  
बल्कि 507 18

**इस से पहले**  
इस के पूर्व 60.20

**इस से पहले कभी नहीं**  
अभूतपूर्वता 312 21

**इसी समय**  
शीघ्रतः 496 13

**इसी से**  
इस लिए 507 10

**इसे**  
इसे 316 33 ⇨

**इस्तागासा**  
आरोप 875 7

**इस्तिगासा**  
अभियोग 875 3

**इस्तिबाा (अरबी)**  
क्रिस्ति 798 31

**इस्तिरी**  
इस्तिरी 220 20 ⇨  
इस्तिरी कर्म 220 18

**इस्तिरी करना**  
इस्तिरी करना 220 39 ⇨

**इस्तिरी कर्म**  
इस्तिरी कर्म 220 18 ⇨

**इस्तिरी कर्मी**  
इस्तिरी कर्मी 220.19 ⇨

**इस्तिस्लाही**  
पारिभाषिक 317 15

**इस्तीफा**  
त्यागपत्र 653.17  
सत्ता त्याग 902 2

**इस्तेमाल**  
उपभोग 524 1  
खपत 644 6

**इस्तेमाल कर के देखना**  
आजमाना 524 11

**इस्तेमाल करना**  
उपभोग करना 524 10

**इस्तेमाल कर्दा**  
उपभोक्ता 524 16

**इस्तेमाल न होना**  
उपभुक्त न होना 525 4

**इस्तेमालशुदा**  
उपभुक्त 524 14  
भुक्त 363 13

**इस्तेमाल होना**  
उपभुक्त होना 524 9

**इस्पर्ज**  
स्पर्ज 1002.11

**इस्पनाक**  
पालक 189 26

**इस्पात**  
इस्पात 93.11 ⇨

**इस्फ़जा**  
स्पर्ज 1002 11

**इस्प**  
नाम 315 2

**इस्प शरीफ़**  
श्रोता नाम 315 8

**इस्माइली**  
इसमाइली 736 5

**इस्लाम**  
इसलाम धर्म 736 1

**इस्लामाबाद**  
पाकिस्तान. राजधानी 27.20

**इस्लाह**  
संशोधन 537 4

**इस्लाह करना**  
संशोधन करना 537.8

**इह**  
यह 316 11

**इहकाल**  
वर्तमान काल 36 13

**इहकाल में**  
वर्तमान में 36 33

**इहकालीन**  
वर्तमान कालीन 36 21

**इहलोक**  
इहलोक 258 11 ⇨  
जीव जगत 121 3  
जीवन यात्रा 229 10  
पृथ्वी 9 1

**इहलोक तंत्र**  
इहलोक तंत्र 881.15 ⇨

**इहलोकतंत्र वाद**  
इहलोकतंत्र वाद 884 6 ⇨

**इहलोक परलोक**  
दो लोक 258 2

**इहलोक बंधन**  
आवागमन चक्र 246 3

**इहलोक यात्रा समाप्त होना**  
मरना 249.18

**इहलोकवाद**  
इहलोकवाद 760 15 ⇨  
भौतिकवादावाद 760.22

**इहलोक वादी**  
धर्महीन 735.15

**इहलीकिक**  
इहलीकिक 258.13 ⇨  
नश्वर 38 7

**इहलीकिकता**  
इहलोकतंत्र वाद 884.6

**इहलीकिता**  
नश्वरता 38.2

**इहीं**  
इधर 30 6

**इहामुत्र**  
दो लोक 258.2

**इहुँ**  
इधर 30 6

## इ

**इंगुर**  
सिंदूर 225 18

**इंच**  
कर्षण 1051 7  
केकड़ा 124.14  
बान तेल 800.30

**इंच लगाई**  
बान तेल 800.30

**इंचें**  
बान तेल 800.30

**ईंट**  
ईंट 599.31 ⇨

टेक रोज़ा 598.6  
ताश रंग सूची 479 18  
धातु पिंड 976.11

**ईट**  
धातु पिंड सूची 976 12

**ईट का जवाब पत्थर**  
करारा उत्तर 334.2  
गुरुतर प्रतिप्रहार 918 5

**ईट बिनाई**  
थिनाई 599 24

**ईट पत्थर मारना**  
कटु भाषण करना 432 8

**ईट फ़र्श**  
ईट फ़र्श 610 3 ⇨

**ईट: भट्ठा**  
भट्ठा 109 9

**ईट: सड़क**  
ईट सड़क 1063.41 ⇨

**ईटा**  
ईट 599 31

**ईडुरी**  
ईडुरी 584 2

**ईडुरी**  
ईडुरी 584 2 ⇨

**ईधन**  
ईधन. 110 1 ⇨  
जलायन 110 4

**ईधन गैस**  
रसोई गैस 110 2

**ईधन: दुकान**  
ईधन दुकान 110.15 ⇨

**ई**  
यह 316 11

**ई. (बीज रूप)**  
ईसा के बाद 42 5

**ईरनेटी (ऑ) (बीज नाम)**  
कंठ कर्ण नासिका विकिन्सा 173.7

**ईकोर (ग्रीक पुराण)**  
देव रुधिर 131 2

**ईको साउंडर**  
ईको साउंडर 958.19 ⇨

**ईको साउंडर (ऑ)**  
ईको साउंडर 958 19

**ईकोसाउंडिंग (ऑ)**  
प्रतिध्वनिक धाह मापन 958.18

**ईक्विटी (ऑ)**  
शेयर 628 13

**ईक्विटी होल्डर (ऑ)**  
शेयरधारी 628 31

**ईक्येशन (ऑ)**  
समीकरण सूत्र 852.6

**ईक्षण**  
अवलोकन 284.1  
नेत्र 141.1

**ईक्षणिक**  
प्राच्य वक्ता 281.43

**ईख: नीरस ऊपरी भाग**  
ईख: नीरस ऊपरी भाग 526.4 ⇨

**ईखः फोक**  
 ईखः फोक 526.3 ⇨  
**ईखः नद्य**  
 रम 209 14  
**ईख मूल**  
 ईख मूल 112.13 ⇨  
**ईख शर्करा**  
 ईख शर्करा 280.22 ⇨  
**ईख सरकंडा जैसा पादप**  
 गुल्म 111 15  
**ईगो (औं)**  
 अह तत्त्व 351 3  
**ईज़ल (औं)**  
 फलक आधार 404 32  
**ईजाद**  
 आयिष्कार 307 5  
 आविष्कृत 307 17  
**ईजान**  
 यज्ञ पुरोहित 753 10  
**ईजी बेअर (औं)**  
 आराम कुरसी 595 24  
**ईडियोसिक्लेसी (औं)**  
 सनक 353 10  
**ईडीपस ग्रंथि**  
 मातृ ग्रंथि 352 10  
**ईथर (औं)**  
 शुद्ध वायु 85 3  
**ईद**  
 ईद 57.43 ⇨  
 उत्सव 56 1  
**ईवः इनाम**  
 ईदः इनाम 57 44 ⇨  
**ईव का चौद**  
 अर्ध चंद्रमा 86  
 ईद का चौद 57 47 ⇨  
 दुर्लभ 942 19  
**ईद का चौद होना**  
 दुर्लभ होना 942 11  
**ईवगाह**  
 ईदगाह 745.16 ⇨  
**ईवः दूसर दिव मेला**  
 टर 57.48  
**ईवी**  
 ईवः इनाम 57.44  
**ईवुज्जुहा**  
 ईदुल अरहा 57.45  
**ईवुल अरहा**  
 ईदुल अरहा 57.45 ⇨  
**ईवुल कितर**  
 ईदुल कितर 57.46 ⇨  
**ईवुरा**  
 ऐसा 317 30  
 ऐसे 514.23  
**ईवे कुचबानी**  
 ईदुल अरहा 57.45  
**ईवे मिलाव**  
 वारह वज्रात 57.50

**ईवेन (बोनों ईद)**  
 ईद 57 43  
**ई.पू. (बीज रूप)**  
 ईसा से पहले 42 6  
**ईप्सा**  
 इच्छा 359 1  
 लालसा 359 5  
**ईप्सित [ईप्सिता]**  
 इच्छित 359 19  
**ईमान**  
 आदर्श 829 4  
 आस्तिकतावाद 760 13  
 इस्लाम धर्म 736 1  
 ईमानदारी 815 2  
 धर्म 735 1  
 श्रद्धा 340 5  
 सज्जनता 817 1  
 स्वार्थहीनता 712 7  
**ईमानदार**  
 ईमानदार 815 7 ⇨  
 स्वार्थहीन 712 18  
**ईमानदारी**  
 ईमानदारी 815.2 ⇨  
**ईमानदारी की कमाई**  
 अकपट आय 643 7  
**ईमानदारीः दिखावा**  
 धर्म पाखंड 825 3  
**ईमानदारी से**  
 न्यायपूर्वक 874 39  
**ईमान करामोश**  
 निष्ठा विकेता 827 17  
**ईमान करामोशी**  
 निष्ठा विक्रय 827 2  
**ईमान बेचना**  
 निष्ठा बेचना 827 11  
**ईमान वाला**  
 धर्मानुपालक मुसलमान 736 4  
 श्रद्धालु 340 18  
**ई-मेल**  
 ई-मेल 444 32 ⇨  
**ई-मेल (औं)**  
 ई-मेल 444 32  
**ईयर (औं)**  
 वर्ष 42 8  
**ईयर बुक**  
 ईयर बुक 446.18 ⇨  
**ईयर बुक (औं)**  
 ईयर बुक 446.18  
**ईर**  
 वायु 85.1  
**ईरानी**  
 पारसी 736.28  
**ईर्ष**  
 बाहु 149.8  
**ईर्षक**  
 फूट 190.25  
**ईर्षा**  
 आठ अवगुण सूची 761.13

**ईर्ष्या** 709 1  
**ईर्ष्यापूर्ण इष्टि**  
 नज़र 711 5  
**ईर्ष्यालु**  
 ईर्ष्यालु 709 6  
**ईर्ष्याहीन**  
 ईर्ष्याहीन 709 7  
**ईर्ष्याहीनतः**  
 ईर्ष्याहीनतः 709 12 ⇨  
**ईर्षित**  
 ईर्षित 709 5 ⇨  
**ईर्षिततः**  
 ईर्ष्यापूर्वक 709 11  
**ईर्ष्य**  
 ईर्ष्यालु 709 6  
**ईर्ष्यकतः**  
 ईर्ष्यापूर्वक 709 11  
**ईर्ष्यतः**  
 ईर्ष्यापूर्वक 709.11  
**ईर्ष्या**  
 ईर्ष्या 709 1 ⇨  
 ईर्ष्यालुता 709 2  
**ईर्ष्या करना**  
 ईर्ष्या होना 709 3  
**ईर्ष्यापूर्ण**  
 ईर्ष्यापूर्ण 709 4 ⇨  
**ईर्ष्यापूर्णता**  
 ईर्ष्यालुता 709 2  
**ईर्ष्यापूर्वक**  
 ईर्ष्यापूर्वक 709 11 ⇨  
**ईर्ष्यालु**  
 ईर्ष्यालु 709 6 ⇨  
**ईर्ष्यालुता**  
 ईर्ष्यालुता 709 2 ⇨  
**ईर्ष्यालु होना**  
 ईर्ष्या होना 709 3  
**ईर्ष्याहीन**  
 ईर्ष्याहीन 709 7 ⇨  
**ईर्ष्या होना**  
 ईर्ष्या होना 709 3 ⇨  
**ईर्ष्यु**  
 ईर्ष्यालु 709 6  
**ईल (औं)**  
 वाम 125 9  
**ईली**  
 धातु मेंढी लाठी 923 10  
**ईव (औं)**  
 आदम. पत्नी 791 7  
**ईवन (औं)**  
 समसंख्यक 949.29  
**ईवन नंबर (औं)**  
 समसंख्या 949.8  
**ईवा**  
 आदम. पत्नी 791 7  
**ईश**  
 ईश्वर 764 1  
 ग्यारहः उपमान सूची 948.41  
 प्रधान व्यक्ति 852.4

लोकपाल सूची 780 7  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767 1  
 स्वामी 621 2  
**ईश उपनिषद**  
 उपनिषद सूची 740 13  
**ईशाचाप**  
 शिव धनुष 926 12  
**ईशदूत**  
 ईसा सदेश वाहक 71 12  
 पैगंबर 791 1  
**ईशा**  
 इड 352 4  
 कुलीन स्त्री 728 7  
 पार्वती 776 9  
**ईशान**  
 दीप्ति 287 16  
 धन वैभवशाली 226 16  
 प्रकाश 287 1  
 शिव 767 1  
 शिव आठ रूप सूची 767 26  
 शिव चार मूर्ति सूची 746 10  
**ईशान कोण**  
 उत्तर पूर्व 29 15  
**ईशान मुख**  
 शिव मुख सूची 767 6  
**ईशानी**  
 दुर्गा 776 7  
**ईशिता**  
 प्रधानता 852 3  
**ईशित्व**  
 सिद्धि देवी सूची 774 101  
**ईश्वर**  
 ईश्वर 764 1 ⇨  
 ईसा पिता 791 9  
 एक उपमान सूची 948 13  
 कामदेव 773 12  
 त्रिपदार्थ सूची 765 11  
 धन वैभवशाली 226 16  
 पारा 94 9  
 प्रधान व्यक्ति 852 4  
 राजा 882.6  
 रुद्र सूची 767 36  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767.1  
 सप्ताधारी 899 3  
 स्वामी 621.2  
**ईश्वर (दे.)**  
 आत्मा 763 1  
**ईश्वरः अक्षितता**  
 ईश्वर. अक्षितता 764.5 ⇨  
**ईश्वर अर्पण**  
 कर्मफल त्याग 504.13  
**ईश्वर आज्ञा**  
 धर्म आदेश 742 7  
**ईश्वरः आदेश**  
 अंतरात्माः आदेश 351.5

## ईश्वर एक है

- ईश्वर एक है  
एकेश्वरवाद 760 16
- ईश्वर करे  
कारा 375 12
- ईश्वर कीर्तन  
कीर्तन 749 30
- ईश्वर कृत  
ईश्वर कृत 764.36 ⇨
- ईश्वर कृपा  
ईश्वर दया 834 2
- ईश्वर को जाना जा सकता है  
ज्ञेयवाद 760 7
- ईश्वर को प्यारा होना  
मरना 249 18
- ईश्वर गुणगान  
कीर्तन 749 30
- ईश्वर ज्ञानी  
अध्यात्मज्ञ 761 25
- ईश्वर दया  
ईश्वर दया 834.2 ⇨
- ईश्वर दर्शन  
ईश्वर दर्शन 749 36 ⇨
- ईश्वर दूत  
पैगंबर 791 1
- ईश्वर ध्यान  
ज्ञान ध्यान 755.1
- ईश्वर नहीं है  
नास्तिकतावाद 760 14
- ईश्वर निषेध  
नास्तिकतावाद 760 14
- ईश्वर निष्ठा  
आस्तिकतावाद 760 13
- ईश्वर पुत्र  
ईसा 791 8
- ईश्वर पूजक  
ईश्वर पूजक 751.5 ⇨
- ईश्वर पूजा  
ईश्वर पूजा 751.4 ⇨
- ईश्वर-प्रकृति: प्रथम अवतार  
पुरुष 764 21
- ईश्वर प्रदत्त  
ईश्वर प्रदत्त 764 37 ⇨
- ईश्वर प्रेम  
ईश्वर प्रेम 368.6 ⇨
- ईश्वर प्रेरित धर्मग्रंथ  
अपीरुषेय धर्मग्रंथ 738.3
- ईश्वर भक्त  
ईश्वर पूजक 751 5
- ईश्वर भक्ति  
ईश्वर पूजा 751.4
- ईश्वरमय  
धर्मशील 735 13
- ईश्वर महान है  
अल्लाहो अकबर 741 30
- ईश्वर: महिमा अपार है  
नेति 741 26
- ईश्वर मूर्ति  
ईश्वर मूर्ति 746 3 ⇨

- ईश्वरवाद  
आस्तिकतावाद 760 13
- ईश्वर: विधान  
प्राग्बन्ध 260 1
- ईश्वर: विभूति  
ईश्वर विभूति 764 3 ⇨
- ईश्वर: विभूति सूची  
ईश्वर विभूति सूची 764.4 ⇨
- ईश्वर सत्ता में अविश्वास  
नास्तिकतावाद 760 14
- ईश्वर सद्म  
देव मंदिर 745 30
- ईश्वर है  
आस्तिकतावाद 750 13
- ईश्वरा  
दुर्गा 776 7  
लक्ष्मी 775 1  
शक्ति 776 17
- ईश्वराज्ञा  
धर्म आदेश 742 7
- ईश्वरी  
ईश्वर प्रदत्त 764 37  
ईश्वरीय 764 35  
पार्वती 776.9  
प्रेरणाजन्य 499 7  
लक्ष्मी 775 1  
शक्ति 776.17
- ईश्वरीय  
ईश्वर कृत 764 36  
ईश्वरीय 764 35 ⇨  
प्रेरणाजन्य 499 7  
मानव अरथित 528 9
- ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मोक्ष संभव है  
ज्ञेयवाद 760 7
- ईश्वरीयता  
धर्मशीलता 735.2
- ईश्वरीय प्रेरणा  
अंतरात्मा आदेश 351.5  
ईश्वरीय संदेश 443.6
- ईश्वरीय सीला  
ईश्वरीय लीला 764.2 ⇨
- ईश्वरीय बचन  
अपीरुषेय धर्मग्रंथ 738 3  
बाइबिल 739 8
- ईश्वरीय विधान  
ईश्वरीय विधान 878.19 ⇨  
ईश्वरीय विधान धारण  
ईश्वरीय विधान धारण 878.20 ⇨
- ईश्वरीय संकट  
ईश्वरीय संकट 909.4 ⇨
- ईश्वरीय संदेश  
ईश्वरीय संदेश 443.6 ⇨  
ईश्वरीय संदेश बहन  
ईश्वरीय संदेश बहन 443.7 ⇨
- ईश्वरीय संदेश वाहक  
पैगंबर 791 1
- ईश्वरव्युत्पन्न वर्ण  
अतस्थ वर्ण 411.12

- ईश्वदुष्ण  
अत्य उष्ण 104.21
- ईशा  
हल लट्ठा 563.13
- ईशिका  
सीक 114 6
- ईसयी  
ईसवी सवत 42.4  
ईसा के बाद 42.5
- ईसवी मास सूची  
ईसवी मास सूची 43.4 ⇨
- ईसवी संवत  
ईसवी सवत 42 4 ⇨
- ईसा  
ईसा 791 8 ⇨  
पैगंबर सूची 791.2
- ईसाइयत  
ईसाई धर्म 736.16  
ईसाई समष्टि 736 18
- ईसाइयत ग्रहण  
क्रिस्मिंग 798 31
- ईसाई  
ईसाई धर्मावलंबी 736 17  
ईसा विषयक 791 31
- ईसाई त्रिमूर्ति  
ईसाई त्रिमूर्ति 765 2 ⇨
- ईसाई त्रिमूर्ति: तृतीय तत्त्व  
होली 765 4
- ईसाई त्रिमूर्ति: द्वितीय तत्त्व  
ईसा 791 8
- ईसाई त्रिमूर्ति: प्रथम तत्त्व  
गौड 764.14
- ईसाई त्रिमूर्ति सूची  
ईसाई त्रिमूर्ति सूची 765 3 ⇨
- ईसाई धर्म  
ईसाई धर्म 736 16 ⇨
- ईसाई धर्म प्रचारक  
ईसाई धर्म प्रचारक 744.32 ⇨
- ईसाई धर्माधिकारी समष्टि  
ईसाई धर्माधिकारी समष्टि 744.27 ⇨
- ईसाई धर्माधिकारी समष्टि सदस्य  
ईसाई धर्माधिकारी समष्टि 744 27
- ईसाई धर्मावलंबी  
ईसाई धर्मावलंबी 736.17 ⇨
- ईसाई मठ  
ईसाई मठ 745.10 ⇨
- ईसाई मठाधीश  
पादरी 744.29
- ईसाई मठाधीश स्त्री  
मदर 744.30
- ईसाई संवत  
ईसवी संवत 42.4
- ईसाई संस्कार  
ईसाई संस्कार 798.30 ⇨
- ईसाई समष्टि  
ईसाई समष्टि 736.18 ⇨

- ईसाई समुदाय  
ईसाई समष्टि 736.18
- ईसाई साधारण जन  
ईसाई साधारण जन 743.3 ⇨
- ईसा उपहार वाहक  
मग 791 18
- ईसा के बाद  
ईसा के बाद 42 5 ⇨
- ईसा क्षरित  
न्यू टेस्टामेंट 739.12
- ईसा: जन्म दिवस  
क्रिसमस 57.57
- ईसा दूत  
ईसा संदेश वाहक 791 12
- ईसा: धर्म  
ईसाई धर्म 736 16
- ईसा: पालक पिता  
ईसा पालक पिता 791 10 ⇨
- ईसा: पिता  
ईसा. पिता 791 9 ⇨
- ईसा पुनरुत्थान  
ऐडवैट 57 56
- ईसा पुनरुत्थान दिवस  
ईस्टर 57 55
- ईसा पूर्व  
ईसा से पहले 42 6
- ईसा: पूर्ववर्ती पैगंबर  
यहिया 791.25
- ईसा बलिदान दिवस  
गुड फ्राईडे 57 59
- ईसा मसीह  
ईसा 791.8
- ईसा मसीह: सलीब  
क्रूस 407 11
- ईसा: माता  
ईसा. माता 791.11 ⇨
- ईसा माता  
मरियम 791.19
- ईसा विषयक  
ईसा विषयक 791.31 ⇨
- ईसा शिष्य  
ईसा संदेश वाहक 791 12
- ईसा संदेश वाहक  
ईसा संदेश वाहक 791.12 ⇨
- ईसा से पहले  
ईसा से पहले 42.6 ⇨
- ईस्ट (ऑ)  
एशिया 27 1
- ईस्टर  
ईस्टर 57.55 ⇨
- ईस्टर रविवार से पहला शुक्रवार  
गुड फ्राईडे 57.59
- ईश्वर को जाना नहीं जा सकता  
अज्ञेयवाद 760 8
- ईहा  
इच्छा 359.1
- ईहामृग  
मेडिया 127 77

**ईहाहीनतः**  
इच्छाहीनतः 360 21  
**ईहित**  
इच्छित 359 19

**उ**

**उंगनी**  
औइलिंग 538 5  
**उंगल**  
उंगली 150 13  
**उंगलियाँ**  
दस उपमान सूची 948 39  
पोंच उपमान सूची 948 26  
**उंगली**  
अगुली सकेत 29 26  
उंगली 150 13 ⇨  
**उंगली उठाना**  
आरोप लगाना 875 22  
निदा करना 843 14  
**उंगली कबब**  
अंगुशताना 562 20  
**उंगलीः गौठ**  
उंगली पोरवा 150 21  
**उंगलीः घुटकी**  
घुटकी 150 22  
**उंगली छाप**  
उंगली छाप 867 3 ⇨  
**उंगलीः निशान**  
उंगली निशान 867 2 ⇨  
**उंगलीः पोरवा**  
उंगली. पोरवा 150 21 ⇨  
**उंगुली संकेत**  
अगुली संकेत 422 5  
**उंचन**  
अदवान 570 10  
**उँचा [उँची]**  
उच्च 982 7  
**उँचाई**  
उच्चता 982 1  
**उँचान**  
उच्चता 982 1  
घड़ान 988 3  
**उँच**  
उँच धान्य 548 27  
उँचल से झडा अनाज 187 4  
**उँच कर्म**  
उँच कर्म 548.26 ⇨  
**उँचजीवी**  
उँचाहारी 204.11  
**उँच धान्य**  
उँच धान्य 548.27 ⇨  
**उँच शिल**  
उँच धान्य 548.27  
**उँचशील**  
उँचाहारी 204 11  
**उँचहार**  
उँचाहारी 204.11

**उँचहारा**  
उँचाहारी 204 11  
**उँचाई करना**  
उँचाई करना 548.42 ⇨  
**उँचाहारी**  
उँचाहारी 204.11 ⇨  
**उँजरिया**  
चाँदनी 287 6  
**उँटका**  
उँटडा 1076 20 ⇨  
टेक डडा 596 5  
**उँटहार**  
ऊँटवान 1082.14  
ऊँट सवार 1082 10  
**उँटहारा [उँटहारी]**  
ऊँटवान 1082 14  
ऊँट सवार 1082 10  
**उँडलन**  
उँडेल 668 2  
**उँडलना**  
उँडलना 1032 18 ⇨  
**उँडला [उँडली]**  
उँडला [उँडली] 1032.30 ⇨  
**उँडलाय**  
उँडलाय 1032 4 ⇨  
**उँडुक**  
परिशिष्ट 447.10  
**उँडेल**  
उँडेल 668 2 ⇨  
**उँडेलना**  
उँडेलना 668.15 ⇨  
**उँदरी**  
केश क्षय 137 15  
**उँदुक**  
घूहा 127 60  
**उँदुर**  
घोखट. शीर्ष काष्ठ 609.2  
**उँस**  
प्रेम 368.1  
**उँह**  
नहीं 338 51  
भर्त्सना उदगार सूची 843.28  
**उँरण**  
ऋणमुक्त 833 36  
**उँरणता**  
पुत्री विवाह 799.7  
**उकट पुराण**  
निदा पुराण 843.4  
**उकई**  
उकई 1028.6 ⇨  
बैठना मुद्रा सूची 1028 5  
**उकताक**  
उबाऊ 401 15  
**उकताया [उकताई]**  
ऊबा [ऊबी] 401 14  
**उकताहट**  
ऊब 401.3

**उकलाई**  
वमन 215 26  
**उकलाहट**  
मिघलाहट 215 27  
**उकलैदिस**  
ज्यामिति 956 1  
**उकसना**  
अकुर निकलना 117 10  
विद्रोह करना 903 14  
**उकसा [उकसी]**  
उकसाया [उकसाई] 499 12  
**उकसाना**  
आलोक बढ़ाना 285 41  
उकसाना 499 6 ⇨  
पट्टी पकाना 332 13  
**उकसाने वाला**  
उकसाने वाला 499.13 ⇨  
**उकसाया [उकसाई]**  
उकसाया [उकसाई] 499 12 ⇨  
**उकसाया**  
उकसाया 499 4 ⇨  
**उकसावे से**  
उकसावे से 499 14 ⇨  
**उकसाहट**  
उकसाया 499.4  
उत्तेजना 371 4  
**उकेरक**  
उत्कीर्ण कर्ता 406 20  
**उकेरना**  
उत्कीर्ण करना 406 36  
**उकेरा [उकेरिन]**  
उत्कीर्ण कर्ता 406.20  
**उकेरा [उकेरी]**  
उत्कीर्ण 406 41  
**उकीना**  
दोहद 798 5  
**उक**  
कथित 430 16  
तथाकथित 821 21  
**उकता**  
तथाकथितता 821 10  
**उकि**  
उक्ति 434 1 ⇨  
उद्धरण 424 11  
कटाक्ष 844 3  
कहावत 424.12  
काव्य गुण सूची 453.4  
सूक्ति 434.2  
**उकि चिह्न**  
उक्ति चिह्न 425.42 ⇨  
**उकि चिह्न**  
उक्ति चिह्न 425 42  
**उकि प्रत्युक्ति**  
वार्तालाप 435 1  
**उकि वैधिय**  
अर्थालंकार 454.2  
**उकथ**  
स्तोत्र 741 16

**उकथी**  
स्तोत्र गायक 460.36  
**उक्षा**  
मरुत 781.1  
**उखाइना**  
उधइना 574.8  
प्रतिरोध असफल होना 915 6  
विस्थापित होना 1036 11  
**उखाइ [उखाई]**  
उच्छेदित 1017 7  
उधइ [उधाई] 574.14  
उन्मूलित 548.57  
विस्थापित 1036 13  
**उखाइ**  
उन्मूलन 548 28  
**उखाई पिंडी**  
रोपणार्थ उखाई पिंडी 548.10  
**उखाइ**  
उच्छेदन 1017.1  
उन्मूलन 548 28  
रोपणार्थ उखाइ 548 9  
**उखाइना**  
उच्छेदन करना 1017 5  
उन्मूलित करना 546 43  
लुपित करना 1017.6  
विस्थापित करना 1036.12  
**उखाइने वाला**  
विरथापक 1036 14  
**उखाइ पछाइ**  
उथल पुथल 532 4  
घुगलखोरी 843.11  
दौवपेघ 819 11  
**उखाइ**  
उच्छेदक 1017 8  
उन्मूलन कर्ता 548.58  
**उखाइना**  
उच्छेदन करना 1017.5  
**उग आना**  
उद्भिद होना 117 12  
**उगता [उगती]**  
उदीयमान 5.29  
**उगन**  
अंकुरण 117 1  
उदभेदन 117.4  
**उगना**  
अंकुर निकलना 117.10  
उत्पन्न होना 546 8  
उदित होना 5.26  
**उगलवान**  
थुकदानी 218.23  
**उगलना**  
अपराध स्वीकार करना 876 23  
वमन करना 215.29  
**उगा [उगी]**  
उत्पन्न 117 18  
उत्पन्न 546.9  
उदित 5 28  
उद्भिद 117 20

## उगादी

### उगादी

नव वर्ष सूची 42.19

### उगाना

उत्पादन करना 546.7

### उगार

कूप स्वच्छीकरण 19.21

निचुका पानी 220.15

### उगाल

धुक 215.22

पमन 215.26

### उगालदानी

धुकदानी 218.23

### उगाहना

उगाही करना 634.17

### उगाहा [उगाही]

उगाहा [उगाही] 634.24 ⇨

### उगाही

उगाही 634.1 ⇨

### उगाही करना

उगाही करना 634.17 ⇨

### उग्र

अति आविष्ट 371.9

अदम्य 519.28

असयमी 809.9

उग्रवादी 343.21

कुद्द 373.28

क्रोधी 373.29

निर्दय 835.10

प्रबल 487.24

भयानक 395.25

विकराल 154.23

शिव आठ रूप सूची 767.26

सात मरुत सूची 781.4

हठी 349.14

### उग्र क्रांति

हिंसक क्रांति 903.11

### उग्रगंध

लहसुन 281.29

हींग 281.39

### उग्रबंधा

नायिका सूची 774.46

### उग्रजाति

जारज 716.18

### उग्रता

अति आवेश 371.2

अदम्यता 519.12

उग्रानुभूति 353.4

प्रबलता 487.6

विकरालता 154.8

हठीलापन 349.5

### उग्रतारा

उग्रतारा 774.12 ⇨

कालिका 776.2

### उग्रधन्वा

ईंद्र 773.5

शिव 767.1

### उग्ररेता

रुद्र 767.34

### उग्रयाव

आतकवाद 395.6

### उग्रवादी

आतकवादी 395.24

उग्रवादी 343.21 ⇨

### उग्रसेन

उग्रसेन 771.42 ⇨

### उग्रसेनज

कस 771.46

### उग्रहण

उगाही 634.1

### उग्रा

अग्नि जिह्वा सूची 106.10

कर्कशा 838.11

दुर्गा 776.7

महाकाली 776.4

### उग्रानुगामी

उग्रवादी 343.21

### उग्रानुभूति

उग्रानुभूति 353.4 ⇨

### उघटना

गाली देना 433.6

### उघड़ना

उघड़ना 574.8

परिधान उतारना 590.14

प्रकट होना 822.17

### उघड़ा [उघड़ी]

अनावृत 822.29

अपिधानित 675.19

पल्लवहीन 115.14

प्रकट 822.27

### उघड़ा [उघड़ी]

रोमहीन 135.12

### उघड़ाई

अनावरण 822.10

अपिधानन 675.2

### उघड़ापन

बेपर्दगी 590.12

### उघड़ाकना

अनावृत करना 822.18

अपिधानित करना 675.16

परिधान उतारना 590.14

रहस्य खोलना 822.16

### उघंत

रोकड़ उघंत 630.10

### उघक

उघक 1030.7 ⇨

### उघकन

उघक 1030.7

### उघकना

उघकना 1030.16 ⇨

### उघकने वाला

उघकने वाला 1030.28 ⇨

### उघकू

उघकने वाला 1030.28

### उघकका [उघककी]

उठाईगीर 864.11

### उघककापन

उठाईगीरी 864.10

### उघटना

अग्नि उदीप्त होना 107.11

उछलना 1030.17

ऊबना 401.8

विरक्त होना 386.4

विलग होना 1011.3

### उघटा [उघटी]

उघाट 401.16

### उघटाना

उकसाना 499.6

विलग करना 1011.4

### उघाट

उघाट 401.16 ⇨

### उघाटता

उघाटता 401.4 ⇨

उदासी 380.5

खिन्नता 380.2

### उघाट होना

विरक्त होना 386.4

### उघारना

अभिव्यक्ति करना 428.9

उच्चारण करना 411.16

### उघित

अवसरानुकूल 70.14

आधरणीय 808.13

तर्कपूर्ण 325.21

नियमानुकूल 879.18

नैतिकतापूर्ण 815.5

संगत 438.6

स्वीकार्य 337.17

### उघित अनुघित

विपरीतता: उपमान सूची 310.13

### उघित अनुघित कहना

गाली गलौज करना 433.7

### उघितता

अवसरानुकूलता 70.2

संगतता 438.1

### उघवंड

अति आविष्ट 371.9

धैर्यहीन 395.27

### उघव

उघव 982.7 ⇨

उघव कुलीन 728.15

उघव वर्णीय 731.32

उतम 313.13

उन्नमित 1025.7

गुणवतायुक्त 957.10

प्रतिष्ठित 849.15

महान 839.8

### उघव अधिकार

उघव पदाधिकार 652.5

### उघव अधिकारी

उघव पदाधिकारी 652.6

### उघव आकांक्षा

दिवा स्वप्न 267.2

### उघव आचरण

महानता 839.1

### उघव आयोग

उघवायोग 692.11

### उघव कर्म

महानता 839.1

### उघवकित

आरधयित 379.8

### उघव कुल

उघव कुल 728.2 ⇨

### उघव कुलीन

उघव कुलीन 728.15 ⇨

### उघव कुलीनता

उघव कुलीनता 728.3 ⇨

### उघवक्र

उघवक्र 973.6 ⇨

उघवक्र 973.11 ⇨

### उघवकरण

उघवकरण 1033.10 ⇨

### उघव क्रम

आरोह क्रम 991.3

### उघवकिल

उघवकिल 973.12 ⇨

### उघवकिल रेखा

उघवकिल रेखा 968.15 ⇨

### उघव चाप (प्र)

उघव रुधिर चाप 131.6

### उघव जन

कुलीन जन 728.6

### उघवटा

दर्प 858.5

श्रेष्ठ प्रथि 352.7

### उघवतः

उघवतः 982.12 ⇨

### उघवतम

उघवतम 982.8 ⇨

### उघवतम अधिकारी

महा अध्यक्ष 652.16

### उघवतम अधिपति

सर्वाघ्व सत्ताधारी 899.5

### उघवतमता

उरुर्कष सीमा 1001.6

उतमतमता 313.3

प्रथम स्थान 707.4

### उघवतम न्यायालय

उघवतम न्यायालय 874.10 ⇨

### उघवतम सत्ता

सर्वाघ्व सत्ता 899.4

### उघवतम समिति

महासमिति 692.24

सर्वाघ्व समिति 692.27

### उघव तट

नारियल 13.11

### उघवता

उघवता 982.1 ⇨

उतमतमता 313.3

ऊँचाई माप 958.18

क्रद 154.2

पराकाष्ठा 534.3  
 प्रतिष्ठा 849.2  
 महानता 839.1  
 उच्चताः उपमान सूची  
 उच्चताः उपमान सूची 982.13 ⇨  
 उच्चता स्तर  
 मानदंड 957.5  
 उच्च वाय क्षेत्र  
 उच्च वाय क्षेत्र 51.9 ⇨  
 उच्च दिशा  
 उच्च दिशा 982.4 ⇨  
 उच्च न्यायालय  
 उच्च न्यायालय 874.9 ⇨  
 उच्च पद  
 उच्च पदाधिकार 652.5  
 उच्च पदाधिकार  
 उच्च पदाधिकार 652.5 ⇨  
 उच्च पदाधिकारी  
 उच्च पदाधिकारी 652.6 ⇨  
 उच्च भाग  
 उच्च भाग 982.5 ⇨  
 उच्च भूमि  
 पठार 16.2  
 बागर 552.7  
 उच्च मध्यम वर्ग  
 उच्च मध्यम वर्ग 688.11 ⇨  
 उच्चमनस्क  
 महान 839.8  
 उच्च मनस्कता  
 संदाशयता 817.4  
 उच्च मनोबल  
 उच्च मनोबल 394.5 ⇨  
 उच्चमन्यता  
 श्रेष्ठ प्रथि 352.7  
 उच्च मस्तक  
 चीड़ा मस्तक 158.3  
 उच्च मार्ग  
 उच्च मार्ग 1065.3 ⇨  
 उच्चय  
 धयन 1009.2  
 उच्चय अक्षय  
 उत्थान पतन 1035.10  
 उच्चरण  
 कथन 430.1  
 उच्चरित  
 अभिव्यक्त 428.17  
 उच्चरित 411.17  
 कथित 430.16  
 उच्च रुधिर चाप  
 उच्च रुधिर चाप 131.6 ⇨  
 उच्च रेल मार्ग  
 मोनोरेल मार्ग 1088.20  
 उच्चल  
 प्रवाहशील 1041.8  
 संचल 1037.19  
 उच्चलन  
 गमन 1091.1

उच्च बंशीय  
 उच्च कुलीन 728.15  
 उच्च बंशीयता  
 उच्च कुलीनता 728.3  
 उच्च वर्ग  
 उच्च वर्ग 688.8 ⇨  
 उच्च वर्ण  
 उच्च वर्ण 731.6 ⇨  
 उच्चवर्णीय  
 अच्छी नस्ल का 243.18  
 उच्च वर्णीय  
 उच्च वर्णीय 731.32 ⇨  
 उच्चविचार प्रार्थना  
 अपील 875.13  
 उच्चयित  
 उच्चयित 625.7 ⇨  
 उच्चयितता  
 उच्चयितता 625.3 ⇨  
 उच्च सदन  
 राज्यसभा 889.3  
 उच्च सामाजिक स्थिति  
 प्रतिष्ठा 849.2  
 उच्च सिद्धांत  
 आदर्श 829.4  
 उच्च से नीच स्थानः जल वहन  
 जल निकास 23.1  
 उच्च स्तरीयता  
 उत्तमतमता 313.3  
 उच्चस्थ  
 उच्च 982.7  
 उच्चस्थ सत्ता  
 सर्वोच्च सत्ता 899.4  
 उच्च स्थान  
 आल्पर 745.22  
 उच्च स्वर  
 उच्च स्वर 299.5 ⇨  
 स्वर अलंकार सूची 465.11  
 उच्च स्वरीय  
 उच्च स्वरीय 299.22 ⇨  
 उच्चा आयोग  
 उच्चा आयोग 443.14 ⇨  
 उच्चाकांक्षा  
 महत्त्वाकांक्षा 508.3  
 उच्चाकांक्षी  
 महत्त्वाकांक्षी 508.9  
 उच्चाकार  
 उच्च 982.7  
 उच्चाकारा  
 अंतरिक्ष 2.3  
 उच्चाकारीय  
 अंतरिक्षीय 2.8  
 उच्चाटक  
 उच्चाटन कर्ता 758.16  
 उच्चाटन  
 उच्चाटन 758.15 ⇨  
 उच्छेदन 1017.1  
 तंत्र क्रिया सूची 758.5  
 तंत्र शासन 758.8

विस्थापन 1036.4  
 उच्चाटन कर्ता  
 उच्चाटन कर्ता 758.16 ⇨  
 उच्चाटन यंत्र  
 उच्चाटन यंत्र 758.14 ⇨  
 उच्चावर्णी  
 आदर्शवादी 829.10  
 उच्चाधिकारी  
 उच्च पदाधिकारी 652.6  
 उच्चायुक्त  
 उच्चायुक्त 443.12 ⇨  
 उच्चायोग  
 उच्चा आयोग 443.14  
 उच्चायोग 692.11 ⇨  
 उच्चार  
 उक्ति 434.1  
 उच्चारण 411.1  
 उच्चारक  
 अभिव्यक्ति कर्ता 428.18  
 कथन कर्ता 430.18  
 उच्चारण  
 अभिव्यक्ति 428.1  
 उच्चारण 411.1 ⇨  
 कथन 430.1  
 व्याहृति 741.17  
 सस्वर वाचन 399.8  
 उच्चारण अभाव  
 अनुच्चारण 411.2  
 उच्चारण करना  
 उच्चारण करना 411.16 ⇨  
 उच्चारण स्वायत्त  
 अनुच्चार. सार्य 411.21  
 उच्चारण स्थान  
 उच्चारण स्थान 411.9 ⇨  
 उच्चारण स्थान सूची  
 उच्चारण स्थान सूची 411.10 ⇨  
 उच्चारण स्थानानुसार वर्ण सूची  
 उच्चस्य स्वरानुसार वर्णसूची 411.11 ⇨  
 उच्चारणीय  
 उच्चार्य 411.19  
 उच्चारण  
 अभिव्यक्ति करना 428.9  
 उच्चारण करना 411.16  
 उच्चारित  
 अभिव्यक्त 428.17  
 उच्चारित 411.17 ⇨  
 कथित 430.16  
 उच्चार्य  
 उच्चार्य 411.19 ⇨  
 उच्चाशय  
 महत्त्वाकांक्षी 508.9  
 महान 839.8  
 उच्चाशयता  
 संदाशयता 817.4  
 उच्चासन  
 सम्मान स्थान 854.7  
 उच्चित  
 संग्रहित 689.19

उच्चल  
 ऊँची लहरो वाला 1040.33  
 उच्चल तरंग  
 ऊँची लहर 1040.19  
 उच्चलन  
 उच्चलन 1030.9  
 तरंगण 1040.15  
 उच्चलनशीलता  
 टिप्पारीलता 1052.9  
 उच्चलशील  
 उच्चलनशील 1052.23  
 उच्चलिका  
 तीव्र नदी 20.6  
 उच्चलित  
 उच्चला [उच्चली] 1030.29  
 ऊँची लहरो वाला 1040.33  
 उच्चलितता  
 तरंगितता 1040.16  
 उच्चालक  
 उच्चालने वाला 1052.22  
 उच्चालन  
 उच्चालन 1052.7  
 उच्चालित  
 उच्चाला [उच्चाली] 1052.21  
 उच्चिन्न  
 उच्चिदित 1017.7  
 नष्ट 531.7  
 उच्चिन्नक  
 उच्चिदक 1017.8  
 उच्चिष्ट  
 उच्चिष्ट 198.11 ⇨  
 उच्चिष्ट आहार 198.3  
 भुक्त 363.13  
 उच्चिष्ट आहार  
 उच्चिष्ट आहार 198.3 ⇨  
 उच्चिष्ट करना  
 उच्चिष्ट करना 198.10 ⇨  
 उच्चिष्ट बांका  
 मातंगी 774.67  
 उच्चिष्टता  
 उच्चिष्टता 198.2 ⇨  
 भुक्तता 363.2  
 उच्चिष्ट परिधान  
 उच्चिष्ट परिधान 583.3 ⇨  
 उच्चिर्षक  
 शीर्षक 447.17  
 उच्चुस्क  
 करमुक्त 647.42  
 उच्चुखल  
 असंयमी 809.9  
 दर्पी 858.13  
 धुष्ट 734.20  
 नियंत्रणहीन 900.8  
 योजनाहीन 520.21  
 स्वच्छाचारी 809.7  
 उच्चुखलतः  
 क्रमहीनतः 992.7  
 स्वच्छाचारितः 809.11

## उच्छुंखलता

### उच्छुंखलता

असंघम 809.3  
योजनाहीनता 520.15  
स्वेच्छाचार 809.1  
उच्छेता  
नाशक 531.8  
उच्छेद  
नाश 531.1  
उच्छेदक  
उच्छेदक 1017.8 ⇨  
उन्मूलन कर्ता 548.58  
उच्छेदन  
अगच्छेदन 153.4  
उच्छेदन 1017.1 ⇨  
उन्मूलन 548.28  
कर्तन 543.1  
विस्थापन 1036.4  
उच्छेदन करना  
उच्छेदन करना 1017.5 ⇨  
उच्छेदित  
उच्छेदित 1017.7 ⇨  
उन्मूलित 548.57  
विस्थापित 1036.13  
उच्छेदी  
विस्थापक 1036.14  
उच्छेद्य  
अवशिष्ट अंश 939.7  
उच्छ्वसित  
उत्साहित 491.10  
उच्छ्वास  
आह 386.4  
दीर्घ स्वास 245.8  
उच्छ्वासन  
उत्प्रेरण 499.2  
उच्छल  
उचक 1030.7  
उच्छल 1030.8 ⇨  
नभोत्तरण 1081.18  
उच्छल कूब  
उच्छल कूद 1086.1 ⇨  
क्रीडा 469.4  
विदूषकता 837.8  
स्तीपस्टिक 463.8  
उच्छल कूब करना  
उच्छलना कूदना 1086.16  
उच्छल कूब कर्ता  
उच्छल कूद कर्ता 1086.21 ⇨  
उच्छल कूब बैठक  
बैठक सूची 485.12  
उच्छलता [उच्छलती]  
उच्छला [उच्छली] 1030.29  
स्पंदित 1039.18  
उच्छलता कूबता  
उच्छलता कूदता 1086.20 ⇨  
उच्छलन  
उच्छलन 1030.9 ⇨  
उच्छलनशील  
उच्छलनशील 1052.23 ⇨

### उच्छलना

अति आनंदित होना 382.12  
उच्छलना 1030.17 ⇨  
चीकना 379.6  
नभोत्तरित होना 1081.45  
स्पंदित होना 1039.14  
उच्छलना कूबना  
उच्छलना कूदना 1086.16 ⇨  
नाचना 462.26  
उच्छलने वाला  
उच्छलने वाला 1030.30 ⇨  
उच्छला [उच्छली]  
उच्छला [उच्छली] 1030.29 ⇨  
उच्छलाय  
उपटाव 166.3  
उच्छलू  
उच्छलने वाला 1030.30  
उच्छलू कूबू  
उच्छल कूद कर्ता 1086.21  
उच्छाल  
उच्छल 1030.8  
उच्छालन 1052.7  
कूद 1086.3  
नभोत्तरण 1081.18  
फटकई 1009.12  
फदका 91.7  
उच्छाल गति  
टेकओफ़ स्पीड 1081.33  
उच्छाल छक्का  
व्यभिचारिणी 806.11  
उच्छालदार  
उच्छलनशील 1052.23  
उच्छालन  
उच्छालन 1030.10 ⇨  
उच्छालन 1052.7 ⇨  
उच्छालना  
उच्छालना 1052.15 ⇨  
प्रक्षेपण करना 1052.14  
उच्छालने वाला  
उच्छालने वाला 1052.22 ⇨  
उच्छाल फटक  
फटकई 1009.12  
उच्छाला  
उच्छल 1030.8  
उच्छालन 1052.7  
उच्छालन 91.3  
कूद 1086.3  
फदका 91.7  
व्यापारिक बर्हंगाई 664.14  
उच्छाला [उच्छाली]  
उच्छाला [उच्छाली] 1052.21 ⇨  
उच्छालू  
उच्छालने वाला 1052.22  
उच्छालें लेता  
ऊँची लहरों वाला 1040.33  
उच्छाय  
आनंद 382.1  
उत्सव 56.1

### उत्साह 491.1

उच्छाव बधाव  
आनंद मंगल 382.3  
उत्सवंपूर्णता 56.2  
मंगल बधाई 841.23  
उच्छाह  
आनंद 382.1  
उत्साह 491.1  
मंगलोत्सव 796.1  
मद 211.1  
उच्छाह बधावा  
मंगल बधाई 841.23  
उच्छाका  
कृषि रक्षक पुतला 550.3  
उच्छाकना  
नष्ट होना 531.4  
निर्जन होना 617.10  
पल्लव गिरना 117.16  
विस्थापित होना 1036.11  
उच्छाका [उच्छाकी]  
ढहा [ढही] 539.17  
नष्ट 531.7  
निरावासित 617.14  
विस्थापित 1036.13  
शोभाहीन 226.12  
उच्छाकड़  
अत्यधिक लाका 721.16  
घुष्ट 734.20  
उच्छाकड़ता  
अत्यधिक लाकापन 721.5  
घुष्टता 734.8  
उच्छाकक  
अप्रदीप 304.9  
असम्य 734.14  
मूर्ख 302.7  
मूर्ख व्यक्ति 302.2  
उच्छाककपन  
असम्यता 734.1  
उच्छाकत  
पारिश्रमिक 643.8  
उच्छालतबाज़  
जल्दबाज़ 496.12  
उच्छालतबाज़ी  
जल्दबाज़ी 496.4  
उच्छाला  
धोबी 220.6  
उच्छाला [उच्छाली]  
उच्छाल 218.37  
श्वेत 289.65  
सुदूरय 282.22  
उच्छाला काला  
विपरीतता: उपमान सूची 310.13  
उच्छाला जादू  
उपकारक जादू 474.8  
उच्छाला पञ्चबाका  
शुक्ल पक्ष 45.3  
उच्छालापन  
सुदूरयता 282.12

### उच्छाला रंग

प्रस्फुटित रंग 289.27  
उच्छाली रात  
उच्छाली रात 48.4 ⇨  
उच्छागर  
आलोकित 285.45  
उच्छाल 218.37  
ख्यात 847.3  
उच्छागर करना  
रहस्य खोलना 822.16  
उच्छाक  
ढहा [ढही] 539.17  
नष्ट 531.7  
निर्जन 617.16  
निर्जन स्थान 617.7  
वनस्पतिहीन 111.32  
शोभाहीन 226.12  
उच्छाक खंड  
घन 12.1  
उच्छाकना  
नष्ट करना 531.5  
विस्थापित करना 1036.12  
उच्छाला  
दिन 47.1  
प्रकाश 287.1  
उच्छाला करना  
आलोकित करना 285.39  
उच्छास  
अंतश्चद्रता 285.34  
प्रकाश 287.1  
उच्छायारना  
आलोकित करना 285.39  
उच्छायाला  
प्रकाश 287.1  
उच्छायाली  
घौंटी 287.6  
उच्छाकन  
उच्छेदन 1017.1  
उच्छजनन  
उत्परिवर्तन 534.6  
उच्छजिनी रेखा  
उच्छजिनी रेखा 10.15 ⇨  
उच्छजिनी रेखा से पूर्व-पश्चिम दूरी  
देशांश 10.14  
उच्छागरक  
उच्छागरक 265.8 ⇨  
उच्छागरण  
उच्छागरण 265.3 ⇨  
उच्छागधन 499.3  
उच्छागरण (दे.)  
उच्छागण 499.2  
उच्छजीवन  
विपरीतता: उपमान सूची 310.13  
उच्छजीवन  
मृतक: पुनरुज्जीवन 260.9  
उच्छजीवित  
पुनरुज्जीवित 260.21  
उच्छर्जुभा  
जैभाई 266.10



**उज्ज्वल**

उज्ज्वल 218.37 ⇨  
दीप्त 287.34  
प्रक्षालित 220.40  
उज्ज्वल करना  
उज्ज्वल करना 218.32 ⇨  
उज्ज्वलन  
उज्ज्वलन 218.10 ⇨  
रंग प्रस्फुटन 291.3  
उज्ज्वल रंग  
प्रस्फुटित रंग 289.27  
उज्ज्वला  
कोध 287.20  
उज्ज्वलित  
आलोकित 285.45  
उज्ज्वल 218.37  
उज्ज्वलीकरण  
उज्ज्वलन 218.10  
उज्ज्वलित  
उलझा [उलझी] 573.20  
उज्ज्वल  
तकरारी 708.14  
उज्ज्वल  
आपत्ति 326.4  
प्रतिरोध 329.4  
उज्ज्वल  
उद्यक 1030.7  
उज्ज्वलना  
उद्यकना 1030.16  
घीकना 379.6  
उज्ज्वलय  
उद्यक 1030.7  
उज्ज्वल  
उद्यकने बाला 1030.28  
उज्ज्वल  
ऊँचा [परिधान] 583.24  
उज्ज्वल [उज्ज्वली]  
ऊँचा [परिधान] 583.24  
उज्ज्वल  
पर्णकुटी 602.2  
उज्ज्वला  
उँटका 1076.20  
उज्ज्वल  
उँटका 1076.20  
उज्ज्वल  
उँटका 1076.20  
उज्ज्वली  
ठीहा 598.12  
उज्ज्वल  
उठ खड़न 1029.2  
उज्ज्वल  
उकड़ू 1028.6  
टेक धूनी 598.4  
उज्ज्वली  
घीकना 379.6  
उज्ज्वली  
उकड़ू 1028.6

**उठत**

ऊर्ध्वगमन 1030.3  
नभोत्तरण 1081.18  
उठत गति  
टेकओफ़ स्प्रीड 1081.33  
उठक बैठक  
बैठक 485.11  
उठ कर आगे बढ़ना  
अभ्युद्गत होना 1059.24  
उठ खड़न  
उठ खड़न 1029.2 ⇨  
उठ खड़ा होना  
उठ खड़ा होना 1029.8 ⇨  
उद्यत होना 491.7  
उठता [उठती]  
उत्थानशील 1030.21  
उदीयमान 5.29  
उन्नतिशील 534.11  
उठता गिरना [उठती गिरती]  
उत्थानपतनशील 1035.12  
तरंगित 1040.30  
उठता बैठता [उठती बैठती]  
स्पदित 1039.18  
उठती जबानी  
नवयीयन 231.1  
उठते बैठते  
उठते बैठते 1049.18 ⇨  
उठन  
अकुरण 117.1  
अभ्युद्गमन 1030.10  
आरंभ 994.3  
उठ खड़न 1029.2  
उठ बैठन 1029.1  
उत्थान 1030.1  
उन्नमन 1025.1  
ऊर्ध्वगमन 1030.3  
विद्रोह 903.3  
उठन गिरन  
उत्थान पतन 1035.10  
तरंगण 1040.15  
उठना  
अकुर निकलना 117.10  
उछलना 1030.17  
उठ खड़ा होना 1029.8  
उड़ना 1030.18  
उत्थान होना 1030.13  
उत्पन्न होना 548.8  
उदित होना 5.26  
उद्यत होना 491.7  
उन्नत होना 534.8  
उन्नतौदर होना 988.6  
उन्नमिता होना 1025.5  
उचलना 91.9  
ऊपर जाना 1030.14  
खपना 644.16  
जागना 265.5  
जाना 1091.8  
नभोत्तरित होना 1081.45

**प्रयत्न करना 489.5**

बिकना 861.19  
मरना 249.18  
विद्रोह करना 903.14  
विस्थापित होना 1036.11  
वेग बढ़ना 1043.10  
व्यय होना 644.12  
स्फूर्ति आना 491.6  
उठना: कर्म  
उठ खड़न 1029.2  
उठना गिरना  
उत्थान पतन होना 1035.11  
उठना बैठना  
गति शैली 1084.1  
संगत करना 696.19  
संगति 696.1  
स्पदित होना 1039.14  
उठ बैठन  
उठ बैठन 1029.1 ⇨  
उठ बैठना  
उठ बैठना 1029.7 ⇨  
उठ बैठा  
उठ बैठा 1029.10 ⇨  
उठ बैठा [उठ बैठी]  
उठ बैठा 1029.10  
उठल्लू  
घलिष्णु 1090.42  
उठा [उठी]  
अकुरित 117.18  
अनमित 1025.9  
अपहृत 862.7  
उच्छ 982.7  
उछला [उछली] 1030.29  
उठ बैठा 1029.10  
उठा [उठी] 1029.9 ⇨  
उत्थित 1030.20  
उत्पन्न 548.9  
उत्प्रेरित 499.8  
उदित 5.28  
उद्यत 491.15  
उन्नत 534.10  
उन्नतौदर 988.9  
उन्नमित 1025.7  
ऊर्ध्वगत 1030.23  
किष्णित 195.59  
नभोत्तरित 1081.51  
प्रोत्थापित 1062.31  
प्रोद्गत 988.10  
विस्थापित 1036.13  
उठाई  
उद्ग्रहण 1062.12  
प्रोत्संभन 1062.10  
प्रोत्थापन 1062.5  
भवन निर्माण 598.1  
उठाईगीर  
उठाईगीर 864.11 ⇨  
उठाईगीरी  
उठाईगीरी 864.10 ⇨

**उठाऊ**

उत्थापक 1030.22  
उद्ग्रहण कर्ता 1062.35  
प्रोत्थापक 1062.32  
उठाऊ पुल  
उठाऊ पुल 1065.8 ⇨  
उठा कर एकत्र करना  
संवरण करना 667.11  
उठा कर रखना  
संघय करना 645.5  
उठा कर ले जाना  
भार वहन करना 1061.16  
उठा दाब  
पंप गति 1035.7  
उठान  
आरोह 458.3  
उत्थापन 1030.2  
उन्नतौदरता 988.1  
उन्नमन 1025.1  
उफान 91.3  
ऊर्ध्वगमन 1030.3  
गुब्बद 611.5  
ज्वार 1040.28  
नभोत्तरण 1081.18  
बाढ़ 22.1  
भवन कुरसी 810.5  
भवन निर्माण 598.1  
लीवर उत्तोलन 1062.2  
समुद्री गुफान 85.9  
उठान गति  
टेकओफ़ स्प्रीड 1081.33  
उठानदार  
उन्नतौदर 988.9  
उठान भरना  
नभोत्तरित होना 1081.45  
उठान स्वर  
ग्रह स्वर 459.19  
उठाना  
अपहरण करना 862.5  
उत्पादन करना 546.7  
उत्प्रेरित करना 499.5  
कार्य आरंभ करना 521.5  
किष्णित करना 195.44  
क्रय करना 680.14  
गत्वरित करना 1048.14  
घलाना 1046.16  
चिनना 599.37  
दायित्व लेना 895.6  
प्रहार सहना 920.12  
प्रोत्थापन करना 1062.24  
बेचना 661.20  
भवन बनाना 598.12  
लीवर से उठाना 1062.23  
वहन करना 1061.15  
विस्थापित करना 1036.12  
वेग बढ़ाना 1043.11  
व्यय करना 644.13  
संवरण करना 667.11

## उठाना: कर्म

### उठाना: कर्म

उद्ग्रहण 1062.12

### उठाने वाला

उज्जागरक 265.8  
उत्थापक 1030.22  
उद्ग्रहण कर्ता 1062.35  
प्रोत्थापक 1062.32

### उठा पटक

उन्नति अवनति 532.3  
ऊधम 294.9  
कुम्हती दौवपेच 486.18  
जय पराजय 912.7  
तूमन 85.8  
दौवपेच 819.11

### उठापन

उन्नमितता 1025.2

### उठाया [उठाई]

उद्ग्रहीत 1062.34

### उठाव

उठ खड़न 1029.2  
उन्नतोदरता 988.1  
ऊर्ध्वगमन 1030.3

### उठावन

उत्थापन 1030.2  
प्रोत्थापन 1062.5

### उठावनी

उठावनी 253.7 ⇨

### उठीआ

जंगम 1037.18

### उठीनी

अग्निम देय 634.7  
उठावनी 253.7  
उधार सौदा 658.4

### उठंत

उड़डयन 1030.11  
नभोत्तरण 1081.18

### उठ जाना

अल्प काल तक रहना 38.5

### उठना [उठनी]

उड़डयनशील 1030.32  
द्वुतगामी [द्वुतगामिनी] 1044.7

### उठनी खबर

अपुष्ट समाचार 440.5

### उठव

उड़द 188.9 ⇨  
ओझा: उपकरण सूची 759.12  
दलहन सूची 188.7

### उठव पीठी: पकीका

बडा 200.21

### उठव: बड़ी

उठव: बड़ी 192.15 ⇨

### उठन

उड़डयन 1030.11

### उठन-

उड़डयनशील 1030.32

### उठन क्लासीन

उठन क्लासीन 1074.3 ⇨

### उठन खटोला

उठन खटोला 1074.2 ⇨

### उठन घू

घू मंतर कृत 474.39  
पलायित 916.19

### उठन घू करना

घू मंतर करना 474.34

### उठन तरतरी

उठन तरतरी 1074.4 ⇨

### उठन तारपीडो

राकेट बम 1075.5

### उठन नीका

नीका विमान 1074.11

### उठन बम

राकेट बम 1075.5

### उठन बोट

जल विसर्पी नीका 1072.4

### उठन यान

नभयान 1074.1

### उठना

उठना 1030.18 ⇨

चोरी होना 864.43

तेज़ दौड़ना 484.14

द्वुत गमन करना 1044.5

नभयान प्रस्थान करना 1082.28

नभोत्तरित होना 1081.45

नष्ट होना 531.4

कहरना 1039.16

वाष्प बनना 91.8

विमान चलाना 1081.44

विलुप्त होना 824.17

वेग बढ़ना 1043.10

### उठना [उठनी]

उड़डयनशील 1030.32

### उठने वाला

उड़डयनशील 1030.32

### उठने वाला रंग

कच्चा रंग 289.25

### उठलन

उँडेल 668.2

### उठा [उठी]

उछला [उछली] 1030.29

उठा [उठी] 1030.31 ⇨

नभोत्तरित 1081.51

वाञ्छित 91.10

विवर्ण 291.18

### उठाई

अपव्यय 644.3

अपाहरण 862.4

उछालन 1052.7

### उठाक

अपव्ययी 844.24

### उठाका

विमान चालक 1081.2

### उठान

उछालन 1052.7

उड़डयन 1030.11

एक उठान 1030.12

कुलौच 1084.6

ग्लाइडिंग 1081.21

दिवा स्वप्न 267.2

नभ यात्रा 1087.19

नभोत्तरण 1081.18

विमान उठान 1081.11

विलक्षण दर्शन 342.8

### उठान गति

उठान गति 1081.32 ⇨

### उठान पट्टी

विमान दीक पट्टी 1063.32

### उठान भरना

उठना 1030.18

कल्पना करना 308.10

नभोत्तरित होना 1081.45

### उठान योजना

उठान योजना 1081.10 ⇨

### उठानहीन पक्षी

उठानहीन पक्षी 126.4 ⇨

### उठानहीन पक्षी सूची

उठानहीन पक्षी सूची 126.5 ⇨

### उठाना

अपव्यय करना 644.15

अपहरण करना 862.5

ओसाना 548.41

घकमा देना 819.14

चलता कज़ना 1092.13

चोरी करना 864.44

घू मंतर करना 474.34

झरुद से खोदना 1018.14

बिखरना 668.14

विमान चलाना 1081.44

### उठापन

विवर्णता 289.23

### उठाया [उठाई]

अपहृत 862.7

अपाहृत 862.9

### उठा रंग

विवर्ण रंग 289.24

### उठा लेना

चोरी करना 864.44

### उठिपी (भोजन)

दक्षिण भारतीय 28.76

### उठिया

भारत राष्ट्रभाषा सूची 421.4

### उठिसी

भारतीय सांख्यीय नृत्य सूची 482.7

### उठी

कलाबाजी 1086.14

### उठीसा

उठीसा 28.15 ⇨

### उठीसा: राजधानी

उठीसा: राजधानी 28.16 ⇨

### उठु

तारा 3.2

### उठुप

चंद्रमा 8.2

छोटी नीका 1072.13

नीका 1072.2

नीका सूची 1072.3

बड़ी नेली 977.15

वेडा 1072.51

### उठुपाति

वरुण 773.43

### उठुपच

आकाश 2.1

### उठुराज

चंद्रमा 8.2

### उठेलना

उँडेलना 668.15

### उठडनीय आकाश

विमानन आकाश 1081.35

### उठडयन

उठडयन 1030.11 ⇨

नभ यात्रा 1087.19

विमानन 1081.1

### उठडयन पट्टी

रनवे 1069.20

### उठडयन मार्ग

नभ मार्ग 1066.1

### उठडयनशील

उठडयनशील 1030.32 ⇨

नभोत्तरित 1081.51

### उठडयन सामर्थ्य आना

उठडयन सामर्थ्य आना 1030.19 ⇨

### उठिऊत

नभोत्तरित 1081.51

### उठडीन

उठडयन 1030.11

उठडयनशील 1030.32

ग्लाइडिंग 1081.21

नभोत्तरित 1081.51

### उठडीरा

शिव 767.1

### उठु

उठीसा 28.15

### उठक

ठोकर 1084.10

### उठकन

टेक धूनी 596.4

### उठकना

ठोकर लगना 1084.33

### उठकरना

पति परित्याग करना 804.21

### उठाई

ओड़न 592.2

### उठारना

परनारी को लाना 804.22

### उठावन

उठावन 593.3 ⇨

### उतथ्य

ऋषि मुनि सूची 789.17

### उतना [उतनी]

उतना [उतनी] 946.13 ⇨

उतना जितना [उतनी जितनी]

आयुपातिक 847.24

**उत्तरता [उत्तरती]**  
 अधोगामी 1031.28  
 अवघक्रिल 973.13  
 अवरोह क्रमिक 991.23  
 अवरोही 458.56  
**उत्तरता क्रम**  
 अवरोह क्रम 991.4  
**उत्तरता भाटा**  
 भाटा 1040.27  
**उत्तरते**  
 अवरोहतः 991 30  
**उत्तरन**  
 अवरोहण 1021 6  
 उच्छिष्ट परिधान 582.3  
 छीलन 938.19  
 विमान अवरोहण 1081 25  
**उत्तरन पुतरन**  
 उच्छिष्ट परिधान 583 3  
**उत्तरना**  
 अवतार लेना 789 40  
 अवनति होना 535.4  
 अस्त होना 5 27  
 अस्थायी वास करना 618.21  
 घटित होना 75 8  
 धुंधलाना 286.13  
 नीचे उतरना 1031 17  
 पार जाना 1097.9  
 प्रभाव कम होना 511 11  
**उत्तरना चढ़ना**  
 उत्थान पतन होना 1035.11  
**उत्तरवीं तलाई**  
 तथा: तलाई 195.34  
**उत्तरा [उत्तरी]**  
 अधोगत 1031.27  
 अवतारित 789.42  
 अवतारित 1080.42  
 अवरोहित 1081.53  
 आगत 1093.11  
 मंदित (प्रभाव) 511 20  
**उत्तराई**  
 अवरोहण 1031.6  
 अस्थायी वास 618 10  
 उत्सारण 1059.12  
 ढलान 989.2  
 माल उत्तराई 1081.14  
 विमान अवरोहण 1081.25  
**उत्तरान**  
 अवरोहण 1031.6  
 ढलान 989.2  
**उत्तराना**  
 उबारना 1030.15  
 पार तरना 1097.10  
**उत्तराव**  
 अवरोहण 1031.6  
**उत्तरे कपड़े**  
 उच्छिष्ट परिधान 583.3  
**उत्तार**  
 अवनति 535.1

अवरोह 458.4  
 गांध स्थल 984.6  
 ढलान 989.2  
 पर्वत ढाल 16.12  
 भाटा 1040.27  
 यान अवतारण 1080.8  
 विमान अवरोहण 1081 25  
**उत्तार चढ़ाव**  
 असमतलता 987.1  
 असमतल भूमि 987.2  
 आरोह अवरोह 458.1  
 उत्थान पतन 1035.10  
 उन्नति अवनति 532.3  
 ज्वार भाटा 1040 25  
 सुख दुख 390.1  
**उत्तारचढ़ावदार**  
 असमतल 987.6  
 उत्थानपतनशील 1035 12  
 नाटकीय 466 19  
**उत्तारचढ़ावपूर्ण**  
 उत्थानपतनशील 1035 12  
**उत्तारन**  
 वारफेर 710.12  
**उत्तारना**  
 उत्कीर्ण करना 406.36  
 उत्सारण करना 1059.25  
 ऋण मोचन करना 833.29  
 कच्चाही में तलना 195.53  
 धिक्कांकन करना 404.35  
 जलावतारण करना 1080.37  
 परिधान उत्तारना 590.14  
 पार उत्तारना 1097 11  
 मद्य आसवन करना 82 6  
**उत्तारा**  
 अस्थायी वास 618 10  
 नीका घाट 1089.12  
 मंत्र नाराण 758.8  
 वारफेर 710 12  
 संकट मोचक युक्ति 910.2  
**उत्तारा [उत्तारी]**  
 अवतारित 1080 42  
**उत्तारा करना**  
 वारफेर करना 710.19  
**उत्तारण**  
 आरोही 1082.2  
 उद्यत 491.15  
 यात्री 1087 2  
 युद्धेच्छुक 907.41  
**उत्तावली [उत्तावली]**  
 आतुर 496.11  
 जल्दबाज़ 496.12  
 धैर्यहीन 395.27  
**उत्तावलापन**  
 आतुरता 496.3  
**उत्तावली**  
 आतुरता 496.3  
 जल्दबाज़ी 496.4

**उत्कंठा**  
 आतुरता 496.3  
 धिता 377.2  
 जिज्ञासा 305.22  
**उत्कंठापूर्ण**  
 आतुर 496.11  
**उत्कंठाहीन**  
 अनातुर 497.5  
**उत्कंठित**  
 अस्थिरचित्त 355.7  
 धिताग्रस्त 377.10  
**उत्कंठित [उत्कंठिता]**  
 उद्दिग्न 377 13  
**उत्कंठितता**  
 उद्दिग्नता 377 4  
**उत्कंठित होना**  
 उद्दिग्न होना 377 7  
**उत्क [उत्का]**  
 आतुर 496.11  
 खिन्न 380.10  
**उत्कच**  
 दैत्य सूची 783 19  
**उत्कट**  
 अदम्य 519 28  
 उत्तम 313 13  
 उन्नत 354.22  
 कठिन 519 18  
 दर्पी 858.13  
 प्रबल 487.24  
 हठी 349 14  
**उत्कट इच्छा**  
 लालसा 359.5  
**उत्कटता**  
 अदम्यता 519 12  
 उग्रानुभूति 353 4  
 प्रबलता 487 6  
 हठीलापन 349 5  
**उत्कट प्रेम**  
 प्रेमासक्ति 368 8  
**उत्कट प्रेम करना**  
 प्रेमासक्त होना 368.15  
**उत्कर्ष**  
 अभिमान 858 1  
 उन्नति 534.1  
 क्लार्इमैक्स 483.29  
 समृद्धि 626.1  
**उत्कर्षक**  
 उन्नतिकारी 534.12  
**उत्कर्षकारी**  
 उन्नतिकारी 534.12  
**उत्कर्षण**  
 ऊर्ध्व कर्षण 1082 13  
**उत्कर्षता**  
 उत्तमता 313.3  
**उत्कर्ष पर**  
 पराकाष्ठा पर 534.16  
**उत्कर्ष सीमा**  
 उत्कर्ष सीमा 1001.6 ⇌

**उत्कर्ष होना**  
 उन्नत होना 534.8  
**उत्कल**  
 उड़ीसा 28.15  
**उत्कलिका**  
 कली 115.5  
**उत्काष्ठा**  
 उच्च दिशा 982.4  
**उत्कास**  
 खचार कर्म 215 21  
**उत्कासन**  
 खचार कर्म 215 21  
**उत्कीर्ण**  
 उत्कीर्ण 406.41 ⇌  
**उत्कीर्णक**  
 उत्कीर्ण कर्ता 406.20  
**उत्कीर्ण करना**  
 उत्कीर्ण करना 406.36 ⇌  
**उत्कीर्ण कर्ता**  
 उत्कीर्ण कर्ता 406.20 ⇌  
**उत्कीर्ण कृति**  
 उत्कीर्ण कृति 406.24 ⇌  
**उत्कीर्णन**  
 उत्कीर्णन 406.19 ⇌  
**उत्कीर्ण मूर्ति**  
 उत्कीर्ण मूर्ति 406.7 ⇌  
**उत्कीर्ण लेख**  
 उत्कीर्ण लेख 406.25 ⇌  
**उत्कीर्णन**  
 प्रशंसन 841 4  
**उत्कीर्णन**  
 उत्कीर्णन 1017.4 ⇌  
**उत्कूटक**  
 आपृच्छशायी 1027 18  
**उत्कृण**  
 खटमल 122.17  
 जू 122 23  
**उत्कूल**  
 उँडला [उँडली] 1032 30  
**उत्कृष्ट**  
 उत्तम 313 13  
 उन्नत 534 10  
 परिपूर्ण 313.14  
 प्रथम स्थानीय 707.11  
**उत्कृष्ट कलाकृति**  
 उत्कृष्ट कलाकृति 397.21 ⇌  
**उत्कृष्ट कृति**  
 उत्कृष्ट कलाकृति 397.21  
**उत्कृष्टता**  
 उत्कर्ष सीमा 1001.6  
 उत्तमता 313.3  
 पराकाष्ठा 534.3  
 परिष्कृतता 537.3  
 प्रथम स्थान 707.4  
**उत्कृष्टता प्रेम**  
 उत्कृष्टता प्रेम 400.6 ⇌  
**उत्कृष्टता प्रेमी**  
 उत्कृष्टता प्रेमी 400.20 ⇌

## उत्केंद्र

**उत्केंद्र**  
 उत्केंद्रीय 971.24  
**उत्केंद्रक**  
 उत्केंद्रीय 971.24  
**उत्केंद्र चक्र**  
 उत्केंद्र चक्र 973.2 ⇌  
**उत्केंद्रता**  
 उत्केंद्रता 971.10 ⇌  
 केंद्रहीनता 971.9  
**उत्केंद्र वृत्त**  
 उत्केंद्र चक्र 973.2  
**उत्केंद्रिक**  
 उत्केंद्रीय 971.24  
**उत्केंद्रित**  
 केंद्रहीन 971.23  
**उत्केंद्रीय**  
 उत्केंद्रीय 971.24 ⇌  
**उत्केंद्रीयता**  
 उत्केंद्रता 971.10  
**उत्क्रीष**  
 रिश्वत 865.9  
**उत्क्रम**  
 आरोह क्रम 991.3  
**उत्क्रमण**  
 ऊर्ध्वगमन 1030.3  
 गमन 1091.1 .  
 सीमातिक्रमण 1001.27  
**उत्क्रमिक**  
 आरोह क्रमिक 991.22  
**उत्क्रमित**  
 ऊर्ध्वगत 1030.23  
**उत्क्राम**  
 एक उच्छ्रान 1030.12  
 नभोत्तरण 1081.18  
**उत्क्रोश**  
 कुररी 126.20  
 धिल्लाहट 373.8  
 तकरार 708.7  
**उत्क्लेब**  
 वमन 215.26  
**उत्क्लेश**  
 उद्देग 377.3  
 तरुपकाहट 392.14  
 मिथलाहट 215.27  
**उत्क्षिप्य**  
 उछाला [उछाली] 1052.21  
**उत्क्षेप**  
 उछल 1030.8  
 उछालन 1052.7  
**उत्क्षेपक**  
 उछालने वाला 1052.22  
**उत्क्षेपण**  
 उछालन 1030.10  
**उत्खनन**  
 खनन 406.27  
**उत्खनित**  
 खनित 406.42

**उत्खनन**  
 उत्खनन 1018.2 ⇌  
 कूप उत्खनन 19.19  
 खनि कर्म 92.17  
**उत्खनन करना**  
 खोद कर निकालना 1018.12  
**उत्खनित**  
 उत्खनित 1018.16 ⇌  
**उत्खनित करना**  
 खोद कर निकालना 1018.12  
**उत्खनित्र**  
 उत्खनित्र 559.4 ⇌  
**उत्खात**  
 असमतल भूमि 987.2  
 उच्छेदन 1017.1  
 उत्खनित 1018.16  
 गड्ढा 15.1  
**उत्खाता**  
 उच्छेदक 1017.8  
 खनि कर्मी 1018.8  
**उत्खान**  
 उत्खनन 1018.2  
**उत्तक**  
 ऋषि मुनि सूची 789.17  
**उत्तंभ**  
 आधार 596.1  
 जैक 1062.11  
**उत्तंभक**  
 आधार दाता 1019.20  
 जैक 1062.11  
**उत्तंभन**  
 प्रोत्तंभन 1062.10  
**उत्तरंग**  
 ऊँची लहर 1040.19  
**उत्तंस**  
 आपूषण 228.1  
 कर्णपूर 228.8  
 दूकामणि 228.10  
**उत्तट**  
 उँडला [उँडली] 1032.30  
 खड़ा तट 25.16  
 घाट 25.20  
**उत्तपम**  
 उत्तपम 202.11 ⇌  
**उत्तपा**  
 उत्तपम 202.11  
**उत्तप्य**  
 अति उष्ण 104.20  
 उद्दिग्न 377.13  
 धिताग्रस्त 377.10  
 तप्य 104.22  
**उत्तप्यता**  
 तप्यता 104.3  
**उत्तथ्य**  
 आधारित 1019.17  
**उत्तम**  
 उत्तम 313.11 ⇌  
 उत्तम 313.13 ⇌

कलापूर्ण 402.3  
 प्रधान 852.10  
 सर्वगुण संपन्न 313.17  
**उत्तम अनुत्तम**  
 उत्तम अनुत्तम 313.10 ⇌  
**उत्तम कवि**  
 अच्छा कवि 448.15  
**उत्तम कार्य**  
 उत्तम कार्य 506.4 ⇌  
**उत्तम गायक**  
 कुशल गायक 460.18  
**उत्तमतमता**  
 उत्तमतमता 313.3 ⇌  
**उत्तमतार**  
 उत्तमतार 313.12 ⇌  
**उत्तमतारता**  
 उत्तमतारता 313.2 ⇌  
**उत्तमता**  
 उत्तमतमता 313.3  
 उत्तमता 313.1 ⇌  
 कलापूर्णता 402.1  
**उत्तमता: उपमान सूची**  
 उत्तमता: उपमान सूची 313.4 ⇌  
**उत्तम धर्मशील**  
 अति धर्मशील 735.14  
**उत्तम पुरुष**  
 ईश्वर 764.1  
 कृष्ण 771.1  
 नारायण (नर) 764.19  
 में 316.20  
 विष्णु 768.1  
**उत्तम पुरुष सर्वनाम**  
 सर्वनाम सूची 425.17  
**उत्तम मनु**  
 मनु सूची 788.4  
**उत्तम यज्ञ**  
 हितक इति 754.4  
**उत्तम बब**  
 वृद्धता 232.2  
**उत्तमांग**  
 सिर 140.1  
**उत्तमा**  
 सच्यरित्रा 810.6  
**उत्तमार्थ**  
 उत्तमार्थ 447.12  
 पत्नी 803.6  
**उत्तमोत्तम**  
 उत्तम 313.13  
**उत्तरंग**  
 चौखट: शीर्ष काष्ठ 609.2  
 तरंग शिखर 1040.13  
 तरंगित 1040.30  
**उत्तरंगित**  
 ऊँची लहरों वाला 1040.33  
**उत्तर**  
 अभिवादन उत्तर 1060.22  
 आठ दिशा सूची 29.6  
 उत्तमतार 313.12

**उत्तर 29.9 ⇌**  
**उत्तर 334.1 ⇌**  
 उत्तर कालीन 60.13  
 उत्तरांत 39.16  
 चार दिशा सूची 29.5  
 प्रतिक्रिया 504.4  
 प्रतिदान 641.7  
 प्रतिप्रहार 918.4  
 प्रतिशोध 873.2  
 समाधान 334.6  
 स्पष्टीकरण 876.11  
**उत्तर अयनांत**  
 उत्तर अयनांत 5.20 ⇌  
**उत्तर आभाषा**  
 नक्षत्र सूची 4.6  
**उत्तर कथा**  
 उपसंहार 466.18  
**उत्तर कांड**  
 उत्तरार्थ 447.12  
 रामचरित मानस. कांड 770.16  
 बालीकि उभायण. कांड सूची 770.14  
**उत्तर काल**  
 उत्तर काल 60.5 ⇌  
 भविष्य काल 36.14  
**उत्तर काल में**  
 उत्तर काल में 60.17  
**उत्तर काल में**  
 उत्तर काल में 60.17 ⇌  
**उत्तर कालीन**  
 उत्तर कालीन 60.13 ⇌  
**उत्तर कालीनता**  
 उत्तर कालीनता 60.6 ⇌  
**उत्तर खंड**  
 उत्तर भारत 28.3  
 उत्तरार्थ 447.12  
**उत्तर खंडीय**  
 उत्तर भारतीय 28.75  
**उत्तर गमन**  
 उत्तरायण 5.17  
**उत्तरण**  
 पार तरण 1097.3  
**उत्तरता**  
 उत्तमतारता 313.2  
**उत्तर दक्षिण**  
 विपरीतता: उपमान सूची 310.13  
**उत्तर दक्षिण पुरब पश्चिम**  
 चतुर्दिशत: 29.36  
 सर्वतोमुखी 29.29  
**उत्तरवाता**  
 उत्तरवाता 334.13 ⇌  
 उत्तरदायी 895.11  
 प्रतिवादी 875.12  
**उत्तरदान**  
 उत्तराधिकार दान 623.12  
**उत्तरदान कर्ता**  
 उत्तराधिकार दाता 623.13  
**उत्तर दायक**  
 उत्तरदायी 895.11

**उत्तरवायिता**  
 उत्तरवायित्व 895.3  
**उत्तरवायित्व**  
 उत्तरवायित्व 895.3 ⇨  
**उत्तरवायित्वहीन**  
 अनुत्तरवायी 896.7  
**उत्तरवायित्वहीनता**  
 उत्तरवायित्वहीनता 896.2 ⇨  
**उत्तरवायी**  
 उत्तरवायी 895.11 ⇨  
**उत्तर विद्याल**  
 कुबेर 779.4  
**उत्तर विद्या वर्षी यंत्र**  
 कुतुबनुमा 29.20  
**उत्तर देना**  
 उत्तर देना 334.8 ⇨  
**उत्तर ध्रुव**  
 उत्तर ध्रुव 10.11 ⇨  
**उत्तर ध्रुव तारा**  
 उत्तर ध्रुव तारा 3.12 ⇨  
**उत्तर ध्रुव महासागर**  
 उत्तर ध्रुव महासागर 24.15 ⇨  
**उत्तर न देना**  
 उत्तर न देना 335.5 ⇨  
**उत्तर निकालना**  
 समाधान करना 334.10  
**उत्तरनिष्ठ प्रश्न**  
 विषयनिष्ठ प्रश्न 333.6  
**उत्तर पक्ष**  
 उत्तर पक्ष 324.13 ⇨  
 शुक्ल पक्ष 45.3  
**उत्तर पक्ष प्रस्तोता**  
 उत्तर पक्ष प्रस्तोता 324.14 ⇨  
**उत्तर पट**  
 उत्तरीय 585.7  
**उत्तर पत्रिका**  
 उत्तर पत्रिका 322.17 ⇨  
**उत्तर परिषद**  
 आठ दिशा सूची 29.6  
 उत्तर पश्चिम 29.14 ⇨  
**उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत**  
 सीमांत प्रांत 27.24  
**उत्तर पूर्व**  
 आठ दिशा सूची 29.6  
 उत्तर पूर्व 29.15 ⇨  
**उत्तर प्रत्युत्तर**  
 उत्तर प्रत्युत्तर 334.5 ⇨  
**उत्तर प्रदेश**  
 उत्तर प्रदेश 28.17 ⇨  
**उत्तर प्रदेश: राजधानी**  
 उत्तर प्रदेश: राजधानी 28.18 ⇨  
**उत्तर कल्पुनी**  
 नक्षत्र सूची 4.6  
**उत्तर भाद्रपद**  
 नक्षत्र सूची 4.6  
**उत्तर भारत**  
 उत्तर भारत 28.3 ⇨

**उत्तर भारतीय**  
 उत्तर भारतीय 28.75 ⇨  
**उत्तर भारतीय संगीत**  
 हिंदुस्तानी संगीत 457.11  
**उत्तर बय**  
 वृद्धता 232.2  
**उत्तरयर्जिता**  
 उत्तर कालीनता 60.6  
**उत्तरयर्ती**  
 उत्तर कालीन 60.13  
**उत्तरयर्ती काल**  
 उत्तर काल 60.5  
**उत्तरयर्ती सूची**  
 अनुसूची 993.9  
**उत्तर यादी**  
 प्रतिवादी 875.12  
**उत्तर सूर्य**  
 उत्तरायण 5.17  
**उत्तर हनु**  
 ऊपर का जबड़ा: अस्थि 133.9  
**उत्तरहीन**  
 निरुत्तर 335.10  
**उत्तरहीनता**  
 अनुत्तर 335.1  
 निरुत्तरता 335.2  
**उत्तरा**  
 उत्तर 29.9  
 उत्तरा 771.43 ⇨  
**उत्तराखंड**  
 उत्तर भारत 28.3  
**उत्तराधिकार**  
 उत्तराधिकार 623.1 ⇨  
 पैतृक संपत्ति 624.7  
**उत्तराधिकारतः**  
 अनुवंशातः 727.44  
**उत्तराधिकार दाता**  
 उत्तराधिकार दाता 623.13 ⇨  
**उत्तराधिकार दान**  
 उत्तराधिकार दान 623.12 ⇨  
**उत्तराधिकार दानपत्र**  
 उत्तराधिकार पत्र 623.14  
**उत्तराधिकार देना**  
 उत्तराधिकार देना 623.21 ⇨  
**उत्तराधिकार पत्र**  
 उत्तराधिकार पत्र 623.14 ⇨  
**उत्तराधिकार प्रमाण पत्र**  
 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 623.15 ⇨  
**उत्तराधिकार में मिलना**  
 उत्तराधिकार में मिलना 623.22 ⇨  
**उत्तराधिकार वंश**  
 उत्तराधिकार वंश 623.11 ⇨  
**उत्तराधिकार वंशित**  
 उत्तराधिकार वंशित 623.25 ⇨  
**उत्तराधिकार विभाजन**  
 उत्तराधिकार विभाजन 623.6 ⇨  
**उत्तराधिकारागत**  
 आनुवंशिक 727.39  
 दायागत 623.27

**उत्तराधिकारागतता**  
 दायागतता 623.19  
**उत्तराधिकारी**  
 उत्तराधिकारी 623.2 ⇨  
 वंशज 727.24  
**उत्तराधिकारीय**  
 उत्तराधिकारीय 623.23 ⇨  
**उत्तराधिकारीहीन**  
 उत्तराधिकारीहीन 623.26 ⇨  
**उत्तराधिकारीहीनता**  
 उत्तराधिकारीहीनता 623.18 ⇨  
**उत्तरापथ**  
 उत्तर भारत 28.3  
**उत्तराभिलेख**  
 परिशिष्ट 447.10  
**उत्तरायण**  
 उत्तरायण 5.17 ⇨  
**उत्तरार्ध**  
 उत्तरार्ध 447.12 ⇨  
**उत्तरित**  
 उत्तरित 334.12 ⇨  
**उत्तरी**  
 उत्तर भारतीय 28.75  
 उत्तरी 29.30 ⇨  
**उत्तरी गोलार्ध**  
 उत्तरी भूगोलार्ध 10.5  
**उत्तरी तारा मंडल**  
 देवसेना 774.47  
**उत्तरी भूगोलार्ध**  
 उत्तरी भूगोलार्ध 10.5 ⇨  
**उत्तरीय**  
 उत्तरीय 585.7 ⇨  
**उत्तरीय क्षरण शैली सूची**  
 उत्तरीय क्षरण शैली सूची 585.8 ⇨  
**उत्तरैतरा**  
 दक्षिण 29.10  
**उत्तरौत्तर**  
 आरोह क्रमिक 991.22  
 आरोहतः 991.29  
 क्रमशः 991.28  
 क्रमिक 991.21  
 तारतम्यपूर्वक 1049.22  
 विकास क्रम से 991.33  
**उत्तरौत्तर क्रम**  
 आरोह क्रम 991.3  
**उत्तरौत्तर क्रम से**  
 विकास क्रम से 991.33  
**उत्तरौत्तर क्रमिक**  
 आरोह क्रमिक 991.22  
**उत्तरौत्तरतः**  
 आरोहतः 991.29  
**उत्तरौत्तरता**  
 क्रमिकता 991.2  
**उत्तरौत्तर प्रजनन**  
 वरीय प्रजनन 243.6  
**उत्तरौत्तर विकास**  
 उद्विकास 534.7

**उत्तल**  
 उत्तल 985.4 ⇨  
 उन्नतोदर 988.9  
 जल उत्तल 985.5  
**उत्तलता (वे.)**  
 उन्नतोदरता 988.1  
**उत्तल पर**  
 उत्तल पर 985.19 ⇨  
**उत्तल प्लवन**  
 तरण 483.20  
**उत्तल सूची**  
 उत्तल सूची 985.21 ⇨  
**उत्तलस्थता**  
 उत्तलीयता 985.3  
**उत्तलित**  
 उछाला [उछाली] 1052.21  
**उत्तलीय**  
 उत्तलीय 985.16 ⇨  
**उत्तलीयता**  
 उत्तलीयता 985.3 ⇨  
**उत्ता [उत्ती]**  
 पुत्रहीन 240.10  
**उत्तान**  
 उन्नमन 1025.1  
 खड़ा [खड़ी] 1029.11  
 धित 486.27  
 वितानित 800.31  
**उत्ताप**  
 उत्तेजना 371.4  
 उद्देग 377.3  
 क्लेश 392.3  
 धिता 377.2  
 दुःख 391.1  
**उत्तापक**  
 तप्तक 104.23  
**उत्तापन**  
 तापन 104.4  
**उत्तापित**  
 उन्पीडित 391.2F  
 तप्त 104.22  
**उत्तार**  
 पार उत्तारण 1097.4  
**उत्तारक**  
 पार उत्तारक 1097.17  
**उत्तारण**  
 पार उत्तारण 1097.4  
 विष्णु 768.1  
**उत्तारण यान**  
 लैंडिंग क्राफ्ट 1072.50  
**उत्तारिका**  
 नौका 1072.2  
**उत्तारी**  
 पार उत्तारक 1097.17  
**उत्ताल**  
 अति आविष्ट 371.9  
 उत्तलीय 985.16  
 कठिन 519.18  
 प्रबल 487.24

## उत्ताल तरंग

भयानक 395.25  
 महाकाय 154.22  
 विकराल 154.23  
**उत्ताल तरंग**  
 ऊँची लहर 1040.19  
**उत्तालता**  
 उच्चता 982.1  
**उत्तालताल भेत्ता**  
 कृष्ण 771.1  
**उत्तिष्ठ**  
 उठ बैठ 1029.10  
 उठा [उठी] 1029.9  
**उत्तिष्ठन**  
 उठ बैठन 1029.1  
**उत्तिष्ठ होना**  
 उठ बैठना 1029.7  
**उत्तिष्ठ्या**  
 उठ बैठन 1029.1  
**उत्ती**  
 पुत्रहीन स्त्री 236.11  
**उत्तीर्ण**  
 उत्तीर्ण 322.39 ⇌  
 पार तरित 1097.16  
**उत्तीर्णता**  
 उत्तीर्णता 322.24 ⇌  
**उत्तीर्ण होना**  
 उत्तीर्ण होना 322.36 ⇌  
**उत्तुंग**  
 अत्युच्च 982.10  
 उच्च 982.7  
**उत्तुंगता**  
 अत्युच्चता 982.3  
 उच्चता 982.1  
**उत्तुंग बेला**  
 ज्वार 1040.26  
**उत्तोजक**  
 उत्तोजक 371.12 ⇌  
 उत्प्रेरक 499.9  
 भायोदीपक 358.24  
**उत्तोजन**  
 उत्प्रेरण 499.2  
 भायोदीपन 358.8  
**उत्तोजनशील**  
 उत्तोजनशील 371.11 ⇌  
**उत्तोजना**  
 आवेश 371.1  
 उत्तोजना 371.4 ⇌  
 क्रोध 373.1  
**उत्तोजनाप्रद**  
 उत्तोजक 371.12  
**उत्तोजित**  
 आविष्ट 371.8  
 उकसाया [उकसाई] 499.12  
 उत्तोजित 371.10 ⇌  
 उत्प्रेरित 499.8  
 उदीप्त (अग्नि) 107.14  
 उद्दिग्ध 377.13  
 क्रुद्ध 373.28

भायोदीप्त 358.23  
**उत्तोजित करना**  
 उकसाना 499.6  
**उत्तोजितता**  
 उद्दिग्धता 377.4  
**उत्तोजित होना**  
 उत्तोजित होना 371.7 ⇌  
**उत्तोल**  
 लीवर 1062.3  
**उत्तोलक**  
 प्रोत्थापक 1062.32  
**उत्तोल टेक**  
 लीवर टेक 1062.4  
**उत्तोलन**  
 तौलन 962.2  
 प्रोत्थापन 1062.5  
 लीवर उत्तोलन 1062.2  
**उत्तोलन करना**  
 लीवर से उठाना 1062.23  
**उत्तोलन गति**  
 डेकुल गति 1035.5  
**उत्तोलित**  
 तुला [तुली] 962.65  
 प्रोत्थापित 1062.31  
**उत्त्थरक**  
 वेग वर्धक 1043.18  
**उत्त्थरण**  
 वेग वर्धन 1043.6  
**उत्त्थरित**  
 वेग वर्धित 1043.17  
**उत्थ**  
 उठा [उठी] 1029.9  
**उत्थपन**  
 उठ बैठन 1029.1  
**उत्थपा**  
 उत्तपन 202.11  
**उत्था**  
 उत्थान 1030.1  
**उत्थान**  
 अंकुरण 117.1  
 उत्थान 1030.1 ⇌  
 उत्त्थोतन 21.2  
 उदय 5.7  
 उन्नति 534.1  
 क्लार्इमैक्स 463.29  
 गमन 1091.1  
 ज्वार 1040.26  
**उत्थान कर्ता**  
 उत्थापक 1030.22  
**उत्थानता**  
 संयमित 808.16  
**उत्थान पतन**  
 उत्थान पतन 1035.10 ⇌  
 उथल पुथल 532.4  
 उन्नति अवनति 532.3  
 जय पराजय 912.7  
 ज्वार भाटा 1040.25  
 तरंग गति 1035.6

तरंगण 1040.15  
 पंप गति 1035.7  
 भाग्य चक्र 260.15  
**उत्थानपतनशील**  
 उत्थानपतनशील 1035.12 ⇌  
**उत्थान पतन होना**  
 उत्थान पतन होना 1035.11 ⇌  
**उत्थानशील**  
 उत्थानशील 1030.21 ⇌  
 उदीयमान 5.29  
 उन्नतिशील 534.11  
**उत्थान होना**  
 उत्थान होना 1030.13 ⇌  
**उत्थापक**  
 उत्थापक 1030.22 ⇌  
 ऐलीवेटर 1062.6  
 प्रोत्थापक 1062.32  
**उत्थापन**  
 उत्थापन 1030.2 ⇌  
 पट समक्ष पूर्वतरंग सूची 468.19  
 प्रोत्थापन 1062.5  
**उत्थापित**  
 प्रोत्थापित 1062.31  
**उत्थापित्र (प्र)**  
 ऐलीवेटर 1062.6  
**उत्थायी**  
 उत्थानशील 1030.21  
 ऐलीवेटर 1062.6  
 प्रोत्थापक 1062.32  
**उत्थित**  
 अंकुरित 117.18  
 उठा [उठी] 1029.9  
 उत्थित 1030.20 ⇌  
 उदित 5.28  
 उन्नतोदर 988.9  
 उन्नमित 1025.7  
 ऊर्ध्वगत 1030.23  
 नभोत्तरित 1081.51  
 प्रोत्थापित 1062.31  
**उत्थितता**  
 उन्नमितता 1025.2  
**उत्थित होना**  
 उत्थान होना 1030.13  
**उत्थिति**  
 उत्थान 1030.1  
**उत्थतन**  
 उछलन 1030.9  
**उत्थति**  
 उत्पत्ति 546.5 ⇌  
 उत्पादन 546.4  
 जन्म 248.1  
 स्वयं उत्पत्ति 546.6  
**उत्पत्ति धाम**  
 जन्मभूमि 34.13  
**उत्पत्तिः ब्रह्मा बाहिना अंगूठा**  
 दक्ष 787.2  
**उत्पत्ति स्थान**  
 उत्त्थोत 21.1

जन्म स्थान 248.2  
**उत्पथ**  
 मार्गच्युत 1099.8  
**उत्पन्न**  
 उत्पन्न 546.9 ⇌  
 जन्मा [जन्मी] 248.10  
**उत्पन्न करना**  
 उत्पादन करना 546.7  
 प्रसव करना 244.11  
**उत्पन्नन**  
 उत्पादन 546.4  
**उत्पन्न होना**  
 उत्पन्न होना 546.8 ⇌  
**उत्परिवर्तन**  
 उत्परिवर्तन 534.6 ⇌  
**उत्पल**  
 कमल 14.4  
 कुमुद 14.9  
 नील कमल 14.5  
 पोथा 111.14  
**उत्पलिनी**  
 कमल 14.4  
 कमल सरोवर 18.3  
 कुमुद 14.9  
**उत्पवन**  
 छनाई 1009.8  
**उत्पाटक**  
 उच्छेदक 1017.8  
 विस्थापक 1036.14  
**उत्पाटन**  
 उच्छेदन 1017.1  
**उत्पाटित**  
 उच्छेदित 1017.7  
 उन्मूलित 548.57  
**उत्पाटी**  
 विस्थापक 1036.14  
**उत्पात**  
 उपद्रव 903.1  
 ऊधम 294.9  
 छर्लंग 1086.10  
 भौतिक संकट 909.3  
 संकट 909.1  
**उत्पातहीन**  
 शांतिपूर्ण 372.8  
**उत्पात होना**  
 भौतिक संकट आना 909.14  
**उत्पातिक**  
 अति प्राकृतिक 762.11  
**उत्पाती**  
 ऊधमी 294.32  
 दुश्चरित्र 811.5  
**उत्पाती [उत्पातिनी]**  
 नटखट 860.27  
**उत्पाव**  
 उत्पाद 546.1 ⇌  
 फसल 547.1  
**उत्पावक**  
 उत्पादक 546.13 ⇌

उर्वर (भूमि) 552.16  
 रवेता 527.14  
**उत्पादकता**  
 भूमि उर्वरता 552.8  
**उत्पादन**  
 उत्पाद 546.1  
 उत्पादन 546.4 ⇨  
 जनन 243.1  
**उत्पादन कर**  
 उत्पादन कर 647.14 ⇨  
**उत्पादन करना**  
 उत्पादन करना 546.7 ⇨  
**उत्पादन कर्ता**  
 उत्पादक 546.13  
**उत्पादन लागत**  
 उत्पादन लागत 644.8 ⇨  
**उत्पादन व्यय**  
 उत्पादन लागत 644.8  
**उत्पादन शुल्क**  
 उत्पादन कर 647.14  
**उत्पादनालय**  
 यंत्रालय 558.12  
**उत्पादित**  
 उत्पादित 546.12 ⇨  
**उत्पादित वस्तु**  
 उत्पाद 546.1  
**उत्पाद्य**  
 काल्पनिक 308.18  
**उत्पाद्य कथावस्तु**  
 कथावस्तु प्रकार सूची 466.7  
**उत्पीड़क**  
 अत्याचारी 835.13  
 उत्पीड़क 391.29 ⇨  
 निर्दय 835.10  
**उत्पीड़कता**  
 निर्दयता 835.2  
**उत्पीड़न**  
 अत्याचार 835.3  
 उत्पीड़न 391.10 ⇨  
 मर्दन 911.1  
 रींदाई 541.4  
**उत्पीड़न करना**  
 उत्पीड़ित करना 391.20  
**उत्पीड़नोन्माद**  
 उत्पीड़नोन्माद 353.19 ⇨  
**उत्पीड़ित**  
 अत्याचारित 835.12  
 उत्पीड़ित 391.28 ⇨  
**उत्पीड़ित करना**  
 उत्पीड़ित करना 391.20 ⇨  
**उत्पुलक**  
 रोमांचित 382.21  
**उत्प्रवाह**  
 उँडलाव 1032.4  
**उत्प्रवाहशील**  
 उत्प्लोतशील 21.35  
**उत्प्रवाह स्थल**  
 उत्प्लोत 21.1

**उत्प्रवाह होना**  
 उँडलना 1032.18  
**उत्प्रवाहित**  
 उँडला [उँडली] 1032.30  
**उत्प्रवाही**  
 उत्प्लोतशील 21.35  
**उत्प्राप्त**  
 अतिशयोक्ति 434.4  
 अत्यधिकता 944.2  
 कटाक्ष 844.3  
 प्रक्षेप 1052.1  
**उत्प्राप्तन**  
 प्रक्षेपण 1052.2  
**उत्प्रेक्षक**  
 अनुमान कर्ता 308.21  
**उत्प्रेक्षा**  
 अनुमान 308.8  
 तुलना 309.1  
**उत्प्रेरक**  
 उत्प्रेरण 499.9 ⇨  
 वेग वर्धक 1043.18  
**उत्प्रेरण**  
 उत्प्रेरण 499.2 ⇨  
 ऊर्जायन 101.6  
**उत्प्रेरणा**  
 प्रेरणा 499.1  
**उत्प्रेरित**  
 उत्प्रेरित 499.8 ⇨  
 ऊर्जायित 101.14  
**उत्प्रेरित करना**  
 उत्प्रेरित करना 499.5 ⇨  
**उत्प्लव**  
 उँडेल 668.2  
 कुद 1086.3  
 छलौंग 1086.10  
**उत्प्लवाय**  
 उँडलाय 1032.4  
 छलकाय 1032.3  
**उत्प्लवाय निकास**  
 बाढ़ निकास 23.2  
**उत्प्लवाय होना**  
 उँडलना 1032.18  
**उत्प्लवायित**  
 उँडला [उँडली] 1032.30  
**उत्प्लवायी**  
 उँडला [उँडली] 1032.30  
**उत्फुल्ल**  
 आनंदित 382.17  
 प्रस्फुटित 119.10  
**उत्फुल्लता**  
 प्रस्फुटितता 119.2  
**उत्संग**  
 जल उत्सल 985.5  
 रति संयोग 237.10  
**उत्स**  
 उत्सव 56.1  
 उत्सोत 21.1

**उत्सारण**  
 ऊर्ध्वगमन 1030.3  
**उत्सर्ग**  
 आत्मबलि 754.3  
 परित्याग 1003.1  
 हिंसक बलि 754.4  
**उत्सर्ज (प्र)**  
 हारमोन 129.9  
**उत्सर्जान (प्र)**  
 हारमोन 129.9  
**उत्सर्पण**  
 ऊर्ध्वगमन 1030.3  
**उत्सर्पिणी**  
 अयसर्पिणी 40.5  
**उत्सर्पी**  
 ऊर्ध्वगामी 1030.24  
**उत्सव**  
 उत्सव 56.1 ⇨  
 मंगलोत्सव 796.1  
 विवाह उत्सव 799.2  
 समारोह 694.15  
**उत्सव उपहार**  
 उत्सव उपहार 56.3 ⇨  
**उत्सव पर्व**  
 उत्सव 56.1  
**उत्सवपूर्ण**  
 आनंदपूर्ण 382.16  
 उत्सवपूर्ण 56.9 ⇨  
**उत्सवपूर्णता**  
 आनंद मंगल 382.3  
 उत्सवपूर्णता 56.2 ⇨  
**उत्सवपूर्वक**  
 उत्सवपूर्वक 56.11 ⇨  
**उत्सव मंगल**  
 मंगलोत्सव 796.1  
**उत्सव मनाना**  
 उत्सव मनाना 56.7 ⇨  
**उत्सव वस्त्र**  
 मंगल परिधान 796.6  
**उत्सव वाद्य**  
 मंगल वाद्य 796.11  
**उत्सव संगीत**  
 मंगल संगीत 796.7  
**उत्सव स्थान**  
 उत्सव स्थान 56.4 ⇨  
**उत्सवाग्नि**  
 उत्सवाग्नि 106.2 ⇨  
**उत्सवी**  
 उत्सवी 56.8 ⇨  
**उत्सवी वेश**  
 उत्सवी वेश 589.6 ⇨  
**उत्सादन**  
 पीसठ कला सूची 397.4  
 निरसन 338.9  
**उत्सारण**  
 उत्सारण 1059.12 ⇨  
**उत्सारण करना**  
 उत्सारण करना 1059.25 ⇨

**उत्साह**  
 आनंद 382.1  
 उत्साह 491.1 ⇨  
 मद 211.1  
 वीर रस 455.18  
 स्फूर्ति 491.2  
**उत्साह (दे.)**  
 मनोबल 394.4  
 साहस 394.1  
**उत्साह (वीर)**  
 स्थायी भाव सूची 358.4  
**उत्साह दूटना**  
 उत्साह भंग होना 492.8  
**उत्साहपूर्ण**  
 उत्साहपूर्ण 491.9 ⇨  
 क्रीड़ापूर्ण 469.15  
 रगूर्त 491.13  
**उत्साहपूर्ण गायन**  
 क्रियाग 459.28  
**उत्साहपूर्णता**  
 स्फूर्ति 491.2  
**उत्साहपूर्वक**  
 उत्साहपूर्वक 491.17 ⇨  
 स्वागतपूर्वक 1059.28  
**उत्साहप्रद**  
 उत्प्रेरक 499.9  
 उत्साहप्रद 491.12 ⇨  
**उत्साह भंग**  
 उत्साह भंग 492.2 ⇨  
**उत्साह भंग होना**  
 उत्साह भंग होना 492.8 ⇨  
**उत्साह बर्धक**  
 उत्प्रेरक 499.9  
**उत्साह बर्धन**  
 उत्प्रेरण 499.2  
**उत्साह शक्ति**  
 धैर्य 394.6  
 मनोबल 394.4  
**उत्साह से भरना**  
 स्फूर्ति आना 491.6  
**उत्साहहीन**  
 उत्साहहीन 492.13 ⇨  
**उत्साहहीनता**  
 उत्साहहीनता 492.1 ⇨  
**उत्साह होना**  
 उत्साहित होना 491.5  
**उत्साहित**  
 उत्प्रेरित 499.8  
 उत्साहित 491.10 ⇨  
**उत्साहित होना**  
 उत्साहित होना 491.5 ⇨  
**उत्साहित**  
 उत्साही 491.11  
**उत्साही**  
 उत्साही 491.11 ⇨  
 परिभ्रमी 493.9  
 स्फूर्त 491.13

## उत्सुक

### उत्सुक

- आतुर 496 11  
जिज्ञासु 305 45  
धीर्यहीन 395.27  
लालसी 359.29
- उत्सुकता**  
आतुरता 496 3  
जिज्ञासा 305 22
- उत्सुकता: चरम बिंदु**  
क्वांटमैक्स 463 29
- उत्सुकताहीन**  
जिज्ञासाहीन 306.19
- उत्सुकता होना**  
जिज्ञासा होना 305 26
- उत्सुक होना**  
जिज्ञासा होना 305 26
- उत्सृष्ट**  
परित्यक्त 1003 4
- उत्सृष्टि**  
परित्यग 1003.1
- उत्सेकी**  
उँडला [उँडली] 1032 30  
छलकता [छलकती] 1032 29
- उत्सेचन**  
उत्प्रेतन 21.2  
छिड़काव 668 7
- उत्स्फोट**  
क्रांति विस्फोट 903.8  
विस्फोट 544.8
- उत्स्फोटन**  
अंकुरण 117 1  
उद्भेदन 117 4
- उत्स्फोटशील**  
विस्फोटशील 544 23
- उत्स्य**  
उत्प्रेतशील 21 35
- उत्प्राय**  
उँडलाय 1032 4
- उत्प्राय होना**  
उँडलना 1032.18
- उत्प्रेत**  
उत्प्रेत 21.1 ⇨  
कूप उत्प्रेत 21.3
- उत्प्रेतज**  
उत्प्रेतज 21.36 ⇨
- उत्प्रेत धारा**  
उत्प्रेत धारा 21.5 ⇨
- उत्प्रेतन**  
उत्प्रेतन 21.2 ⇨
- उत्प्रेतशील**  
उत्प्रेतशील 21.35 ⇨
- उत्प्रेत स्थल**  
उत्प्रेत 21 1
- उत्प्रेत होना**  
उत्प्रेत होना 21.28 ⇨
- उत्स्यन**  
उच्च स्वर 299.5  
उच्च स्वरीय 299 22 .

### उथल पुथल

- आदोलन 902.8  
उथल पुथल 532.4 ⇨  
उद्विग्नता 377 4  
उपद्रवग्रस्तता 903.2  
तूफान 85 8
- उथला [उथली]**  
अर्धरिक्त 1005 8  
उथला [उथली] 984.8 ⇨
- उथला जल: नौका कर्षण**  
उथला जल नौका कर्षण 1080.5 ⇨
- उथलापन**  
उथलापन 984.3 ⇨
- उथला पानी**  
उथली जलराशि 984.4
- उथली जलराशि**  
उथली जलराशि 984.4 ⇨
- उदक**  
धमका: कुप्पी 678 10
- उदघन**  
घड़ा 679 1  
जल उदहन 19.22  
डोल 679.33
- उदघन दहन**  
पंप गति 1035.7
- उदक**  
जल 88 1
- उदक कर्म**  
तर्पण 253 22
- उदकघात**  
चाँसठ कला सूची 397.4
- उदक वाद्य**  
चाँसठ कला सूची 397.4
- उदकहार**  
पनहार 19.25
- उदक-**  
उत्तरी 29.30
- उदक्य**  
जलीय 88 22
- उदग्र**  
अति आविष्ट 371.9  
उच्च 982.7  
उन्नमित 1025 7  
प्रोद्गत 988.10  
भयानक 395.25  
विकराल 154.23
- उदग्रता**  
उन्नमितता 1025.2  
प्रोद्गतता 988.2
- उदज**  
जलज 88.24
- उदजन**  
हाइड्रोजन 88.10
- उदधि**  
मेघ 55.1  
समुद्र 24 1
- उदधि संभव**  
समुद्री नमक 279 7

### उदधि क्षुता

- लक्ष्मी 775.1
- उदप**  
नीका 1072.2
- उदपान**  
कूप 19.3
- उदपुर**  
होज 18.14
- उदभार**  
पनहार 19.25
- उदमाता [उदमाती]**  
अलमस्त 382.28
- उदमातापन**  
अलमस्ती 382.7
- उदमाद**  
अलमस्ती 382.7
- उदमादा [उदमादी]**  
अलमस्त 382 23
- उदय**  
उत्थान 1030.1  
उदय 5.7 ⇨  
उन्नति 534.1  
परिणाम 510 1  
सृष्टि रचना 529.1
- उदय अस्त**  
उदय अस्त 5.9 ⇨  
उन्नति अवनति 532 3
- उदय काल**  
प्रभात काल 47.4
- उदय कालीन**  
प्रभात कालीन 47.19
- उदय गिरि**  
उदयाचल 17.10
- उदय दिशा**  
पूर्व 29.11
- उदघन**  
उदय 5.7  
प्रकटन 822.7
- उदय वज्र मानव**  
उदय वज्र मानव 128.8 ⇨
- उदयशील**  
उदीयमान 5.29  
उन्नतिशील 534.11
- उदय होना**  
उदित होना 5 26
- उदया (नराठी)**  
आगामी कल 48.14
- उदयाचल**  
उदयाचल 17.10 ⇨  
पौराणिक पर्वत सूची 17.8
- उदयास्त**  
उदय अस्त 5.9
- उदयी**  
उदीयमान 5.29  
उन्नतिशील 534.11
- उदरंभर**  
अत्याहारी 182.15  
अधिग्रहणशील 835.18

### इकलक्षुरा [इकलक्षुरी] 183.39

- उदरंभरी**  
अत्याहार 182.4
- उदर**  
उदर 148.6 ⇨  
धारण क्षमता 986.4  
पेट 148.1  
मध्य भाग 996.3
- उदर आधि: बाहरी भाग**  
पेट 148.1
- उदर त्राण**  
वक्ष कवच 921.9
- उदर पिशाच**  
अत्याहारी 182.15
- उदर पीड़ा**  
उदर पीड़ा 392.5 ⇨
- उदर प्रवेशिका**  
आहार नली 145.8
- उदर रेखा**  
त्रिवलय 134.9
- उदर रोग**  
उदर रोग 163.25 ⇨
- उदरहाय**  
सोदरशायी 1027.17
- उदर शूल**  
उदर पीड़ा 392.5
- उदरस्थ करना**  
पुरा खा जाना 181.34
- उदरस्थान**  
पूर्ण भक्षण 181.11
- उदरानि**  
पाचन शक्ति 178.2  
पाच्य 129.7
- उदरामय**  
अतिसार 216.14  
उदर रोग 183.25
- उदरावर्त**  
नाभि 148.3
- उदरिक**  
उन्नतोदर 158.29
- उदरीय**  
उदरीय 148.14 ⇨
- उदरक**  
अंत 995.1  
कंगूरा 811.3  
गुंबद 611.5  
मीनार 811.9
- उदधि**  
अग्नि 106.1  
कामदेव 773.12  
शिव 767.1
- उदर्थ**  
उदरीय 148.14
- उदयाह**  
मेघ 55.1
- उदाति**  
हाइड्रोजन 86.10



**उदात्त**  
 उच्च स्वरीय 299 22  
 उत्तम 313.13  
 उदार 344.5  
 गभीर स्वरीय 299 24  
 महान 839 8  
 स्थिरचित्त 355 6  
**उदात्तता**  
 काव्य गुण सूची 453 4  
 महानता 839 1  
 स्थिरचित्तता 355 2  
**उदात्त स्वर**  
 उच्च स्वर 299 5  
**उदात्तीकरण**  
 उदात्तीकरण 399.14 ⇨  
**उदान**  
 उदान वायु 245.16  
 नाभि 143 3  
 पंचप्राण सूची 245 3  
 श्वास 245.4  
**उदानन**  
 श्वास ग्रहण 245 5  
**उदान वायु**  
 उदान वायु 245.16 ⇨  
**उदार**  
 उच्च 982 7  
 उदार 344.5 ⇨  
 दयालु 834.12  
 दानवीर 641.28  
 दृढमतहीन 344 12  
 महान 839 8  
 विशालहृदय 817 11  
 सहिष्णु 872 16  
 स्वार्थ त्यागी 712 19  
 स्वार्थहीन 712.18  
**उदारचेता**  
 विशालहृदय 817 11  
**उदारता**  
 उदार दृष्टिकोण 344.1  
 काव्य गुण सूची 453.4  
 दानीत्व 641.2  
 विशाल हृदयता 817.5  
 सहिष्णुता 872.4  
**उदारतावाद**  
 उदार दृष्टिकोण 344 1  
**उदारतावादी**  
 उदार 344.5  
**उदार दृष्टिकोण**  
 उदार दृष्टिकोण 344.1 ⇨  
**उदारधी**  
 विशालहृदय 817.11  
**उदार पंच**  
 उदार दृष्टिकोण 344.1  
**उदार पंजी**  
 उदार 344.5  
**उदारमनस्क**  
 उदार 344.5

**उदारमना**  
 उदार 344 5  
 विशालहृदय 817 11  
**उदाराशय**  
 विशालहृदय 817 11  
 सदाशय 817.10  
**उदास**  
 आशाहीन 376 5  
 उदास 380 14 ⇨  
 खिन्न 380 10  
**उदास रंग**  
 विदर्प रंग 289 24  
**उदासर्ज**  
 क्रहवा 208 18  
**उदासर्जन**  
 निष्कवाथन 195 40  
**उदासी**  
 आशाहीनता 376 1  
 उदासी 380.5 ⇨  
 खिन्नता 380 2  
 विषादोन्माद 354 12  
**उदासीन**  
 अनासक्त 366 5  
 असावधान 498 6  
 उपेक्षक 185 8  
 तटस्थ 887 11  
 पक्षपातहीन 887 10  
**उदासीनता**  
 अनासक्ति 366.1  
 उपेक्षा 185 2  
 तटस्थता 887.3  
 पक्षपातहीनता 887 2  
**उदाहरण**  
 अनुकरणीय आदर्श 829.5  
 उदाहरण 309.6 ⇨  
 उपमा अलंकार 454.4  
**उदाहरण के लिए**  
 उदाहरणतः 309.25  
**उदाहरणतः**  
 उदाहरणतः 309.25 ⇨  
**उदाहरण स्वरूप**  
 उदाहरणतः 309 25  
**उदाहरणहीन**  
 अनुपम 312.17  
**उदाहरणहीनता**  
 अनुपमता 312.4  
**उचित**  
 उत्पन्न 546.9  
 उचित 5.28 ⇨  
**उचितभाव्य**  
 सौभाग्यशाली 260.33  
**उचित होना**  
 उचित होना 5.26 ⇨  
**उचित**  
 उचित 5.7  
**उदीची**  
 उत्तर 29.9

**उदीचीन**  
 उत्तरी 29 30  
**उदीच्य**  
 उत्तरी 29 30  
**उदीयमान**  
 उदीयमान 5 29 ⇨  
**उदीर्ण**  
 कथित 430 16  
**उदुंबर**  
 गुलर 190 16  
 ताँबा 94 8  
 विष्णु 768 1  
**उदुङ्ग**  
 उठा [उठी] 1029 9  
 विवाहित 799 64  
**उदूल**  
 अवज्ञा कर्ता 348 7  
**उदूली**  
 अज्ञा 348 1  
**उदुक्कथन**  
 उबाल 91 2  
 औटन 91 4  
**उदुक्कवाथ**  
 काढ़ा 208.19  
**उदुक्कवाथन**  
 उदुक्कवाथन 195.39 ⇨  
**उदुक्कवाथित**  
 उदुक्कवाथित 195 76 ⇨  
**उदुक्कवाथित करना**  
 उदुक्कवाथित करना 195 56 ⇨  
**उद्गत**  
 उदित 5.28  
 प्रोद्गत 988 10  
**उद्गतता**  
 प्रोद्गतता 988 2  
**उद्गत होना**  
 प्रोद्गत होना 988.7  
**उद्गम**  
 उत्पत्ति 546.5  
 उत्सोत 21.1  
 उदय 5 7  
 गमन 1091.1  
 शब्दोद्गम 423.3  
**उद्गमन**  
 उत्सोतन 21.2  
 उद्भेदन 117.4  
 गमन 1091.1  
 नभोत्तरण 1081.18  
**उद्गमनशील**  
 उदीयमान 5.29  
**उद्गम स्थल**  
 उत्सोत 21.1  
**उद्गमानुसार शब्द सूची**  
 उद्गमानुसार शब्द सूची 423.4 ⇨  
**उद्गाता**  
 उद्गाता 753.13 ⇨  
 कवि 448.13  
 गायक 460.17

**उद्गाता सहायक**  
 उपगाता 753 14  
**उद्गायक**  
 कवि 448 13  
**उद्गार**  
 उक्ति 434.1  
 उपदेश 430 9  
 भाषण 430 8  
**उद्गीअरन**  
 वेग वर्धन 1043.6  
**उद्गीत**  
 गायित 460.46  
**उद्गीति**  
 गीत 451.19  
 साम गायन 741.12  
**उद्गीथ**  
 आम् 741.19  
 साम गायन 741.12  
**उद्गीरण**  
 वमन 215 26  
**उद्गीर्ण**  
 प्रोत्थापित 1062 31  
**उद्ग्रंथ**  
 ग्रंथि मुक्त 574 12  
**उद्ग्रंथक**  
 ग्रंथि मोचक 574.13  
**उद्ग्रंथन**  
 ग्रंथि मोचन 574 3  
**उद्ग्रंथित**  
 ग्रंथि मुक्त 574 12  
**उद्ग्रहण**  
 उद्ग्रहण 1062.12 ⇨  
**उद्ग्रहण करना**  
 उद्ग्रहण करना 1062.26 ⇨  
**उद्ग्रहीत**  
 उद्ग्रहीत 1062.34 ⇨  
**उद्घाट**  
 कार्य आरंभ 521.1  
**उद्घाटक**  
 आरंभ कर्ता 521.7  
 उद्घाटक 693.12 ⇨  
 ग्रंथि मोचक 574.13  
 रहस्योद्घाटक 822.28  
**उद्घाटन**  
 अनावरण 822 10  
 उद्घाटन 693.2 ⇨  
 ग्रंथि मोचन 574.3  
 प्रीनियर शो 468.6  
 रहस्योद्घाटन 822.6  
 हुम आरंभ: कृत्य सूची 521.3  
**उद्घाटन (दे.)**  
 प्रदेसोत्सव 1094.5  
**उद्घाटन करना**  
 उद्घाटन करना 693.6 ⇨  
**उद्घाटन कर्ता**  
 उद्घाटक 693.12  
**उद्घाटित**  
 अनावृत 822.29

## उद्घाटित (रहस्य)

उद्घाटित 693.11 ⇨

उद्घाटित (रहस्य) 822.25

ग्रंथि मुक्त 574.12

उद्घाटित (रहस्य)

उद्घाटित (रहस्य) 822.25 ⇨

उद्घात

अध्याय 447.2

अभ्युदेश 437.5

उल्लेख 437.6

कार्य आरंभ 521.1

गदा 923.4

शस्त्र 922.2

उद्घातक

अभ्युदेशक 437.12

प्रणोदयिता 1051.34

उद्घातन

प्रणोदन 1051.1

उद्घातित

अभ्युदेशित 437.11

उद्घुष्ट

घोषित 441.22

उद्घूर्ण

घक्रवात 85.10

उद्घोष

गर्वाक्ति 842.2

घोषणा 441.10

मुनादी 441.11

सबल कथन 430.2

उद्घोषक

घोषक 441.23

सभा संचालक 694.20

उद्घोषणा

घोषणा 441.10

मुनादी 441.11

उद्घोषित

घोषित 441.22

उद्बं

अदम्य 519.28

धृष्ट 734.20

साहसी 394.13

उद्बन्ता

अदम्यता 519.12

धृष्टता 734.8

उद्बंत

उद्बंत 144.5 ⇨

उद्बंती (जंतु)

उद्बंती (जंतु) 144.19 ⇨

उद्बंतुर

उद्बंती (जंतु) 144.19

उद्बंश

मच्छर 122.38

उद्बमन

दमन 911.4

उद्बाम

अग्नि आदिष्ट 371.9

अदम्य 519.28

नियंत्रणहीन 900.8

निरकुश 881.40

भयानक 395.25

वरुण 773.43

उद्बामता

अदम्यता 519.12

उद्बालक

ऋषि मुनि सूची 789.17

उद्बिन

मध्याह्न 47.9

उद्बिष्ट

अपेक्षित 359.24

इच्छित 359.19

उद्बिष्ट 508.8 ⇨

उद्बीपक

अग्नि प्रोदीपक 107.15

उत्सेजक 371.12

उत्प्रेरक 499.9

ऊर्जायक 101.15

भावोदीपक 358.24

उद्बीपन

अग्नि उदीपन 107.4

आलोक वर्धन 285.5

ऊर्जायन 101.6

भावोदीपन 358.8

उद्बीपन करना

आलोक बढ़ाना 285.41

भावोदीपन करना 358.19

उद्बीप्त

आलोक वर्धित 285.47

आलोकित 285.45

ऊर्जायित 101.14

दीप्त 287.34

भावोदीप्त 358.23

उद्बीप्त (अग्नि)

उद्बीप्त (अग्नि) 107.14 ⇨

उद्बीप्ति

अंतरघंद्रता 285.34

रत्न आभा 98.3

उद्बीप्त

आलोक वर्धित 285.47

उद्देश

अगुली संकेत 29.26

निदेश 347.2

संकेत 422.4

स्पष्टीकरण 876.11

उद्देशन

निदेशन 347.3

प्रदर्शन 285.1

उद्देशित

प्रदर्शित 285.42

उद्देश्य

उद्देश्य 508.2 ⇨

कथा फल 466.12

कारण 507.3

वाक्यांग सूची 424.5

उद्देशयता:

उद्देश्यपूर्वक 508.12

उद्देशयता

कारणता 507.2

उद्देश्य निष्ठा

धैर्य 394.6

उद्देश्य पूरा होना

सफल होना 512.3

उद्देश्यपूर्ण

प्रयोजनपूर्ण 508.6

उद्देश्य पूर्ति

सफलता 512.1

उद्देश्यपूर्वक

उद्देश्यपूर्वक 508.12 ⇨

उद्देश्य: विस्तार

वाक्यांग सूची 424.5

उद्देश्य से

कारणतः 507.7

उद्देश्यहीन

उद्देश्यहीन 509.4 ⇨

दिशाहीन 1099.11

योजनाहीन 520.21

उद्देश्यहीनता:

उद्देश्यहीनता: 509.6 ⇨

उद्देश्यहीनता

उद्देश्यहीनता 509.2 ⇨

दिशाहीनता 1099.3

योजनाहीनता 520.15

उद्देश्य

निदेशक 347.17

प्रदर्शक 285.44

उद्भूत

अदम्य 519.28

उत्सेजित 371.10

उद्यत 491.15

दर्पी 858.13

धृष्ट 734.20

निर्दय 835.10

उद्भूत उत्तर कलहपूर्ण प्रत्युत्तर

वितंडा 324.5

उद्भूतता

धृष्टता 734.8

उद्भूतमना

दर्पी 858.13

उद्भम

वादन 461.1

उद्भरण

उद्भरण 424.11 ⇨

प्रशंसा आलेख 841.5

उद्भरण चिह्न ( ठ )

उक्ति चिह्न 425.42

उद्भर्ष

आनंदपूर्णता 382.2

रोमांच 382.6

उद्भर्षिणी

वसंत तिलका 452.18

उद्भय

आनंदपूर्णता 382.2

उद्भव 771.44 ⇨

यज्ञाग्नि 106.4

उद्भार

असुर वध 251.4

उत्थान 1030.1

उन्नति 534.1

उपकार 832.1

उबरवाई 1030.6

जीर्णाद्भार 598.11

नवीकरण 64.6

मरम्मत 538.1

मोक्ष 257.1

संकट मोचन 910.1

सुधार 537.5

उद्भारक

उत्थापक 1030.22

उन्नतिकारी 534.12

उबारने वाला 1030.27

जीर्णाद्भारक 598.15

पार उत्तारक 1097.17

मसीहा 791.3

संकट मोचक 910.10

उद्भार करना

असुर वध करना 251.20

संकट दूर करना 910.6

उद्भार कर्ता

संकट मोचक 910.10

उद्भारण

पार उत्तारण 1097.4

उद्भारित

पार तरित 1097.16

संकटमुक्त 910.9

उद्भूत

जीर्णाद्भूत 598.14

संकटमुक्त 910.9

उद्भृत्स

बेसुरापन 459.35

उद्भुज

किण्वित 195.59

उद्भुजन

उद्भुजन 117.3 ⇨

उद्भुजन होना

उत्थान 117.11

उद्भुजित

उद्भुजित 117.19 ⇨

उद्भुद्ध

उद्बोधित 499.10

जाग्रत 265.7

बोध प्राप्त 301.29

उद्भुधन

जागरण 265.2

उद्बोध

उद्बोधन 499.3

उद्बोधक

उत्थापक 265.8

उद्बोधक 499.11 ⇨

उद्बोधन

आवाहन 1055.1

उत्थापण 265.3

उत्प्रेरण 499.2

उद्बोधन 499.3 ⇨

संबोधन 430.10

**उद्बोधन कर्ता**  
उद्बोधक 499.11  
**उद्बोधित**  
उद्बोधित 499.10 ⇌  
**उद्भट**  
अति आविष्ट 371.9  
प्रतिष्ठित 849.15  
महान 839.8  
विलक्षण 312.18  
वीर 396.6  
**उद्भरण**  
लदाई 1061.13  
**उद्भरण करना**  
लादना 1061.17  
**उद्भरित**  
लदा [लदी] 1061.24  
**उद्भय**  
अस्तित्व धारण 246.2  
जन्म 248.1  
**उद्भयन**  
अवतरण 769.2  
**उद्भार**  
लाद 1061.5  
**उद्भारग्रस्त**  
अतिभारग्रस्त 963.15  
**उद्भारग्रस्तता**  
भारग्रस्तता 963.6  
**उद्भाराक्रांत**  
अतिभारग्रस्त 963.15  
**उद्भार्य**  
लदाक 1061.25  
**उद्भायक**  
कल्पना कर्ता 308.17  
**उद्भायन**  
अनुमानन 308.9  
कल्पना कर्म 308.6  
**उद्भायना**  
अनुमान 308.8  
कल्पना 308.1  
**उद्भायित**  
काल्पनिक 308.18  
**उद्भासक**  
आलोकक 285.46  
**उद्भासन**  
आलोकन 285.2  
**उद्भासित**  
अभिव्यक्त 428.17  
आलोकित 285.45  
दीप्ता 287.34  
**उद्भिजन**  
उद्भेदन 117.4  
**उद्भिजः** माता  
इरा 787.10  
**उद्भिज्ज**  
उद्भिज्ज 111.7 ⇌  
**उद्भिज्ज (दे.)**  
वनस्पति 111.1

**उद्भिद**  
अंकुर 113.1  
उद्भिज्ज 111.7  
उद्भिद 117.20 ⇌  
**उद्भिद होना**  
उद्भिद होना 117.12 ⇌  
**उद्भूत**  
उत्पन्न 546.9  
**उद्भूति**  
अस्तित्व धारण 246.2  
उत्पत्ति 546.5  
**उद्भूत**  
लदा [लदी] 1061.24  
**उद्भेद**  
उत्सृष्ट 21.1  
**उद्भेदन**  
उद्भेदन 117.4 ⇌  
**उद्भम**  
एक चक्रावृत्ति 1033.13  
परिक्रमा 1033.3  
**उद्भमण**  
धुपी चक्रण 1033.1  
पर्यटन 1090.6  
**उद्भ्रांत**  
उद्दिग्ग 377.13  
चक्रित 1033.17  
भ्रमित 342.10  
मार्गभ्रांत 1099.7  
**उद्भ्रांति**  
भ्रम 342.1  
**उद्यत**  
उद्यत 491.15 ⇌  
**उद्यततः**  
उद्यततः 491.19 ⇌  
**उद्यतता**  
उद्यतता 491.3 ⇌  
**उद्यत होना**  
उद्यत होना 491.7 ⇌  
**उद्यम**  
उद्यम 557.1 ⇌  
उद्योग 557.3  
परिश्रम 493.1  
प्रयत्न 489.1  
यंत्रालय 558.12  
व्ययसाय 650.9  
**उद्यम करना**  
उद्यम करना 557.11 ⇌  
**उद्यम कर्ता**  
उद्यमी 557.2  
**उद्यम विषयक**  
उद्यम विषयक 557.14 ⇌  
**उद्यमशील**  
परिश्रमी 493.9  
प्रयत्नशील 489.9  
**उद्यमशीलता**  
परिश्रमशीलता 493.2  
**उद्यमहीन**  
अपरिश्रमी 490.11

अप्रयत्नशील 490.9  
**उद्यमहीनता**  
अप्रयत्न 490.1  
आजीविकाहीनता 649.3  
**उद्यमी**  
उद्यमी 557.2 ⇌  
परिश्रमी 493.9  
प्रयत्नशील 489.9  
**उद्यमीय**  
उद्यम विषयक 557.14  
**उद्यान**  
उपवन 12.11  
उपवन वायु सेवन 1085.5  
**उद्यान कर्म**  
उपवन कर्म 12.27  
**उद्यान पथ**  
उपवन पथ 1063.19  
**उद्यान पाल**  
उपवन कर्मी 12.28  
**उद्योग**  
उद्योग 557.3 ⇌  
परिश्रम 493.1  
प्रयत्न 489.1  
यंत्रालय 558.12  
**उद्योग धंधा**  
उद्योग 557.3  
**उद्योगपति**  
उद्योगपति 557.5 ⇌  
**उद्योग पर्व**  
महाभारत. पर्व सूची 771.23  
**उद्योग लगाना**  
उद्योग लगाना 557.12 ⇌  
**उद्योग विषयक**  
उद्योग विषयक 557.15 ⇌  
**उद्योग शाला**  
यंत्रालय 558.12  
**उद्योगशील**  
प्रयत्नशील 489.9  
**उद्योगहीन**  
अपरिश्रमी 490.11  
**उद्योगी**  
उद्योगपति 557.5  
परिश्रमी 493.9  
शिव 767.1  
**उद्योगीकरण**  
उद्योगीकरण 557.4 ⇌  
**उद्योगकर**  
आलोकक 285.46  
**उद्योगतन**  
आलोकन 285.2  
आलोक वर्धन 285.5  
**उद्योगित**  
आलोकित 285.45  
**उद्ग**  
ऊद बिलाव 124.5  
**उद्गध**  
अक्षाय कौल 1077.14

**उद्गाव**  
कोलाहल 294.8  
**उद्गायण**  
कोलाहलकारी 294.31  
**उद्ग्रेक**  
अत्यधिकता 944.2  
उपक्रम 521.4  
भाव विभोरता 358.14  
**उद्गम मानव**  
उदय वृक्ष मानव 128.8  
**उद्गमन**  
वमन 215.26  
**उद्गर्त**  
शोषांश 954.10  
**उद्गर्तन**  
उत्परिवर्तन 534.6  
**उद्गृह**  
भार वाहक 1061.22  
वायु सूची 85.2  
**उद्गहन**  
ऊर्ध्व वहन 1062.1  
जल उद्गहन 19.22  
भार वहन 1061.2  
वहन 1061.1  
विवाहन 799.6  
**उद्गहन करना**  
भार वहन करना 1061.16  
**उद्गहन कर्ता**  
भार वाहक 1061.22  
**उद्गहित**  
वाहित (भार) 1061.21  
**उद्गास**  
विस्थापना 1036.2  
**उद्गासन**  
विस्थापन 1036.4  
**उद्गासा**  
नग्न स्त्री 590.3  
**उद्गाहक**  
भार वाहक 1061.22  
**उद्गाहन**  
भार वहन 1061.2  
**उद्गाहित**  
वाहित (भार) 1061.21  
**उद्गाहिनी**  
डोरी 570.1  
**उद्गाही**  
भार वाहक 1061.22  
विवाह कर्ता 799.60  
**उद्दिकार**  
उद्दिकार 534.7 ⇌  
**उद्दिकार (दे.)**  
क्रमिक परिवर्तन 532.7  
**उद्दिग्ग**  
अस्थिरचित्त 355.7  
आतंकित 395.23  
उद्दिग्ग 377.13 ⇌  
धिताग्रस्त 377.10  
परेशान 519.21

## उद्दिग्मतः

### उद्दिग्मतः

धितिततः 377.15  
**उद्दिग्मता**  
 अस्थिरधितता 355.3  
 उद्दिग्मता 377.4 ⇨  
 ध्यानहीनता 331.3  
 रोग भ्रम 353.7  
**उद्दिग्मता (दे.)**  
 धितानुभूति 353.3  
**उद्दिग्मतापूर्वक**  
 धितिततः 377.15  
**उद्दिग्म न होना**  
 उद्दिग्म न होना 378.6 ⇨  
**उद्दिग्म होना**  
 उद्दिग्म होना 377.7 ⇨  
**उद्देश**  
 आतंक 395.5  
 उत्तेजना 371.4  
 उद्देश 377.3 ⇨  
 धितानुभूति 353.3  
 रोग तीव्रता 163.10  
**उद्देशपूर्ण**  
 आतंकपूर्ण 395.22  
**उद्देशहीन**  
 निरुद्दिग्म 378.9  
 स्थिरधित 355.6  
**उद्देशहीनता**  
 स्थिरधितता 355.2  
**उद्देशी**  
 धिताशील 377.11  
**उद्देश्य**  
 उद्देश्य 1017.2 ⇨  
**उद्देश्य**  
 कंपनी 1039.11  
**उद्देश**  
 चलकता [चलकती] 1032.29  
**उद्देशक**  
 धिताजनक 377.12  
**उद्देशन**  
 उद्देशलाव 1032.4  
 उत्प्राप्तन 21.2  
 चलकाव 1032.3  
 तरंगण 1040.15  
**उद्देशित**  
 उद्देशला [उद्देशली] 1032.30  
 उद्दिग्म 377.13  
 ऊँची लहरों वाला 1040.33  
**उद्देशितता**  
 उद्दिग्मता 377.4  
 तरंगितता 1040.16  
**उद्देश्यन**  
 धेराई 604.8  
 वेष्टन 592.5  
**उद्देश्यार्ज**  
 क्रहवा 208.18  
**उद्देश्यण कर्ता**  
 उद्देश्यण कर्ता 1062.35 ⇨

### उद्ययन

उद्ययन 574.4 ⇨  
**उद्ययना**  
 उद्ययना 574.8 ⇨  
**उद्यका [उद्यकी]**  
 उद्यका [उद्यकी] 574.14 ⇨  
**उद्यमी**  
 उपद्रवकारी 903.17  
 ऊधमी 294.32  
**उद्यर**  
 उद्यर 30.8 ⇨  
 उस पार 998.7  
 दूरी पर 32.10  
 यहाँ 30.7  
 सीमा के उस पार 1001.46  
**उद्यर का**  
 सीमांतरीय 1001.40  
**उद्यरला [उद्यरली]**  
 उस पार का 998.4  
 दूर तटवर्ती 25.32  
 सीमांतरीय 1001.40  
**उद्यर ही उद्यर**  
 बाहर बाहर 1097.24  
**उद्यार**  
 ऋण 633.7  
**उद्यार (संपत्ति)**  
 उद्यार [संपत्ति] 624.18 ⇨  
**उद्यार का व्यवहार**  
 उद्यार सीदा 658.4  
**उद्यार क्रय**  
 उद्यार क्रय 660.5 ⇨  
**उद्यार दाता**  
 ऋण प्रदाता 633.34  
**उद्यार दान**  
 ऋण प्रदान 633.6  
**उद्यार पत्र**  
 ऋण पत्र 633.14  
**उद्यार भुगतान**  
 उद्यार क्रय 660.5  
**उद्यार लेनदेन**  
 उद्यार सीदा 658.4  
**उद्यार लेना**  
 ऋण लेना 633.28  
**उद्यार बचुली**  
 उद्यार विक्रय 661.4  
**उद्यार विक्रय**  
 उद्यार विक्रय 661.4 ⇨  
**उद्यार सीदा**  
 उद्यार सीदा 658.4 ⇨  
**उद्यारी**  
 उद्यार क्रय 660.5  
 ऋण 633.7  
**उद्येक युन**  
 दुबिया 501.1  
 विमर्श 330.11  
**उन**  
 उन 316.16 ⇨

### उन को

उन्हें 316.35  
**उन दिनों**  
 पूर्व काल में 60.18  
**उनयान**  
 शीर्षक 447.17  
**उनीबा [उनीबी]**  
 तंद्रिल 286.16  
**उनीबा होना**  
 तंद्रिल होना 266.12  
**उनीदे**  
 शिथिल गति से 1045.17  
**उनीस**  
 उनीस 948.54 ⇨  
**उन्न**  
 आई 88.27  
**उन्नत**  
 उच्च 982.7  
 उत्थित 1030.20  
 उन्नत 534.10 ⇨  
 उन्नतोदर 988.9  
 परिष्कृत 537.9  
 सभ्य 733.13  
**उन्नत उदर**  
 उमरा उदर 158.6  
**उन्नतता**  
 उच्चता 82.1  
**उन्नतभाल**  
 उन्नतमस्तक 858.12  
**उन्नत भाल**  
 चीका मस्तक 158.3  
**उन्नतभाल**  
 चीके मस्तक वाला 158.13  
**उन्नतमस्तक**  
 उन्नतमस्तक 858.12 ⇨  
**उन्नत मस्तक**  
 उन्नतमस्तकता 858.4  
**उन्नतमस्तक**  
 चीके मस्तक वाला 158.13  
**उन्नतमस्तकता**  
 उन्नतमस्तकता 858.4 ⇨  
**उन्नत लसाट**  
 चीका मस्तक 158.3  
**उन्नत होना**  
 उन्नत होना 534.8 ⇨  
**उन्नतावनत**  
 असमतल 987.6  
**उन्नतावनतता**  
 असमतलता 987.1  
**उन्नति**  
 उत्थान 1030.1  
 उन्नति 534.1 ⇨  
 उन्नति 774.13 ⇨  
 पदोन्नति 653.12  
 प्रतिष्ठा वृद्धि 849.3  
 सन्धीकरण 733.1  
 समृद्धि 826.1

### उन्नति अवनति

उत्थान पतन 1035.10  
 उन्नति अवनति 532.3 ⇨  
 परिवर्तन 532.1  
**उन्नतिअवनतिशील**  
 परिवर्तनशील 532.17  
**उन्नतिअवनतिशीलता**  
 परिवर्तनशीलता 532.2  
**उन्नति करना**  
 उन्नत होना 534.8  
**उन्नतिकारी**  
 उन्नतिकारी 534.12 ⇨  
**उन्नति काल**  
 उन्नति काल 534.2 ⇨  
**उन्नति काल (दे.)**  
 प्रतिष्ठा वृद्धि 849.3  
**उन्नति क्रम**  
 विकास क्रम 991.12  
**उन्नतिशील**  
 उन्नतिशील 534.11 ⇨  
**उन्नति होना**  
 उन्नत होना 534.8  
**उन्नतोदर**  
 उन्नतोदर 158.29 ⇨  
 उन्नतोदर 988.9 ⇨  
**उन्नतोदरता**  
 उन्नतोदरता 988.1 ⇨  
**उन्नतोदर होना**  
 उन्नतोदर होना 988.6 ⇨  
**उन्नमन**  
 उन्नमन 1025.1 ⇨  
 तीवर उत्तोलन 1062.2  
**उन्नमित**  
 उन्नमित 1025.7 ⇨  
**उन्नमितता**  
 उन्नमितता 1025.2 ⇨  
**उन्नमित होना**  
 उन्नमित होना 1025.5 ⇨  
**उन्नम**  
 तीव्र घटानयुक्त 988.12  
**उन्नयन**  
 ऊर्ध्व वहन 1062.1  
 जल उद्बहन 19.22  
**उन्नाव**  
 बेर 190.28  
**उन्नावक**  
 उन्नतिकारी 534.12  
**उन्निन्न**  
 निद्राहीन 285.9  
**उन्निर्वास**  
 क्रहवा 208.18  
**उन्निर्वासन**  
 निष्काशन 195.40  
**उन्नीस**  
 अल्पतर 942.14  
 उनीस 948.54  
 निकृष्ट 314.5

उन्मज्जक  
उबारने वाला 1030.27  
उन्मज्जन  
उबरन 1030.5  
उन्मज्जायन  
उबराई 1030 6  
उन्मज्जायित  
उबारा [उबारी] 1030.26  
उन्मज्जित  
उबरा [उबरी] 1030 25  
उन्मज्जित होना  
उबरना 1030.15  
उन्मत्त  
उन्मत्त 354.22 ⇨  
पागल 354 24  
मदोन्मत्त 211.15  
हठी 349.14  
उन्मत्तता  
पागलपन 354.14  
हठीलापन 349 5  
उन्मत्तवेश  
शिव 767 1  
उन्मत्त होना  
उन्मत्त होना 354.20 ⇨  
उन्मत्तालय  
पागलखाना 354 17  
उन्मत्थन  
वध 251 3  
संचालन 1037 5  
उन्मत्त  
पागल 354 24  
मदोन्मत्त 211 15  
उन्मत्तबिम्बु  
मदोन्मत्त 211 15  
उन्मत्त  
उदास 380.14  
उद्दिग्न 377.13  
उन्मत्तस्क  
उदास 380.14  
उद्दिग्न 377.13  
शोकग्रस्त 383.8  
उन्मत्ता [उन्मत्ती]  
उदास 380.14  
उद्दिग्न 377.13  
उन्मत्तथ  
मारने वाला 251.28  
उन्माद  
अलमस्ती 382.7  
उन्माद 354.4 ⇨  
छ्वा 353.11  
पागलपन 354.14  
मद 211.1  
उन्माद आना  
उन्मत्त होना 354.20  
उन्मादक  
उन्मादकारी 354.23  
मादक 211.12

उन्मादकता  
मादकता 211.5  
उन्मादकारी  
उन्मादकारी 354.23 ⇨  
उन्मादग्रस्त  
उन्मत्त 354.22  
पागल 354.24  
मदोन्मत्त 211.15  
उन्मादन  
काम बाण सूची 773 17  
उन्मादहीन  
अमदोन्मत्त 211.16  
उन्मादी  
उन्मत्त 354.22  
उन्मादकारी 354 23  
उन्मान  
भार माप 962 1  
माप 958 1  
मापन 958.2  
उन्मार्जन  
मार्जन 218.8  
उन्मार्जित  
मार्जित 218.36  
उन्मिति  
माप 958.1  
उन्मील  
विस्फार 119.3  
उन्मीलक  
विस्फारक 119 13  
उन्मीलन  
प्रस्फुटन 119.1  
उन्मीलित  
प्रस्फुटित 119.10  
विस्फारित 119 12  
उन्मीलित करना  
विस्फारित करना 119.7  
उन्मुक्त  
अनिषिद्ध 880.13  
अपराध मुक्त 869.9  
उन्मुक्त 1015.9 ⇨  
निर्यंत्रणहीन 900.8  
बेपरदा 590.19  
उन्मुक्त करना  
उन्मुक्त करना 1015.7 ⇨  
उन्मुक्तता  
अनियमितता 71.3  
उन्मुक्तता 1015.4 ⇨  
बेपर्दगी 590.12  
उन्मुक्त श्वात्  
उन्मुक्त श्वात् 245.7 ⇨  
उन्मुक्त हास  
अट्टहास 384.2  
उन्मुक्त होना  
उन्मुक्त होना 1015.6 ⇨  
उन्मुक्ति  
उन्मुक्ति 1015.3 ⇨  
रिहाई 869.1

उन्मुखता  
प्रवृत्ति 502.1  
उन्मुख होना  
संबोधित करना 430.15  
उन्मुख  
भ्रमित 342.10  
लुब्ध 359.30  
उन्मूलक  
उन्मूलन कर्ता 548.58  
उन्मूलन  
उन्मूलन 548.28 ⇨  
उन्मूलन (दे. कृषि)  
उच्छेदन 1017.1  
उन्मूलन करना  
उन्मूलित करना 548.43  
उन्मूलन कर्ता  
उन्मूलन कर्ता 548.58 ⇨  
उन्मूलित  
उन्मूलित 548.57 ⇨  
उन्मूलित करना  
उन्मूलित करना 548.43 ⇨  
उन्मेष  
प्रस्फुटन 119.1  
विस्फार 119.3  
उन्मेषित  
प्रस्फुटित 119.10  
उन्मेषक  
उन्मेषक 1015.10 ⇨  
उन्मेषन  
उन्मेषन 1015.1 ⇨  
ग्रथि मोचन 574.3  
संरुट मोचन 910.1  
उन्मेषित  
उन्मुक्त 1015.9  
उन्मेषन  
उच्छेदन 1017.2  
उन्हीं को  
उन्हें 316.35  
उन्हीं दिनों  
समकाल में 59.4  
उन्हें  
उन्हें 316.35 ⇨  
उन्हीं  
उन 316.18  
उन्हीं को  
उन्हें 316.35  
उप-  
.तदर्थ नियुक्त 653.39  
स्थानापन्न 653.38  
उप उत्साह  
गीण उत्साह 548.2  
उपकथा  
गीण कथा 486.9  
उपकनिष्ठिका  
अनामिका 150.18  
उपकपोल  
गलघैली 145.11

उपकरण  
आयुध 922.1  
उपकरण 558.7 ⇨  
सामान 666.3  
उपकरण धौला  
किट बैग 673.6  
उपकरण ध्वंस  
तोड़फोड़ 539.4  
उपकरण युक्त  
उपकरणयुक्त 558.21  
उपकरणयुक्त  
उपकरणयुक्त 558.21 ⇨  
उपकरण समुदाय  
उपकरण समुदाय 687.2 ⇨  
उपकरणहीन  
उपकरणहीन 558.22 ⇨  
उपकर्ता  
उपकारी 832.10  
उपकार  
उपकार 832.1 ⇨  
दया 834.1  
सहायता 700.11  
उपकारक  
उपकारक 832.9 ⇨  
उपकारी 832.10  
उपकारक जादू  
उपकारक जादू 474.8 ⇨  
उपकार करना  
उपकार करना 832.7 ⇨  
उपकार कर्ता  
उपकारी 832.10  
उपकार का बदला अपकार  
कृतघ्नता 833.4  
उपकार भार  
कृताज्ञता 833.1  
उपकार धानना  
कृतज्ञ होना 833.5  
उपकारिका  
राज महल 602.34  
उपकारिता  
उपकारिता 832.2 ⇨  
उपकारी  
अनुकूल 885.37  
उपकारी 832.10 ⇨  
राजसी तंबू 600.22  
हितकारी 712.13  
उपकार्या  
धर्मशाला 1090.24  
उप कुलपति  
उप कुलपति 323.14 ⇨  
उपकुलथा  
उप नहर 23.4  
खाई 15.8  
परिखा 604.20  
उपकृष्य  
छोटा कृष 19.4  
उपकृष्य  
तट 25.8

## उपकृत

### उपकृत

उपकृत 832.8 ⇨  
कृतज्ञ 833.8  
दानग्राही 641 25

### उपकृतता

कृतज्ञता 833.1

### उपकोटि

गौण कोटि 936 3

### उपक्रम

अभियान 907 24  
आरंभ 994 3  
उपक्रम 521 4 ⇨  
कार्य आरंभ 521 1  
पूर्व पीठिका 466 17  
प्रयत्न 489.1  
भूमिका 447.8

### उपक्रमण

आरंभण 994.4  
प्रवर्तन 693 3

### उपक्रमणिका

भूमिका 447 8  
विषय सूची 447 7

### उपक्रमी

उद्यमी 557.2

### उपक्रान्त

आरंभित 521 6

### उपक्रान्ता

प्रवर्तक 693 14

### उपक्रोश

आक्रोश 373 3

### उपक्रोष्टा

गथा 127.30

### उपकथन

वीणा ध्वनि 296 14

### उपक्षेत्र

परिक्षेत्र 34 3

### उपक्षेप

प्रक्षेप 1052 1

### उपखंड

नगर खंड 619 5

### उपगत

गत 1091 8

### उपगाता

उपगाता 753.14 ⇨

### उपगाल

गलथैली 145 11

### उपगिरि

छोटा पर्वत 16 5

### उपगृह

उपभवन 602.10

### उपगोपन

घात प्रतीक्षा 914 1

### उपग्रह

उपग्रह 7.3 ⇨

### उपघात

रोग आक्रमण 169.1

### उपबंध

चंद्रमा प्रकाश मंडल 287.4

### उपबंधक

चंद्रमा प्रकाश मंडल 287.4

### उपघय

एकत्रण 667.1  
सघय 645 3

### उपघरित

धिकित्सित 171 19

### उपघर्ष

परिघर्षा 651 6  
पूजा 751 1

### उपघार

धिकित्सा 171.1

### उपघारक

धिकित्सक 171.13

### उपघारिका

उपघारिका 720.3 ⇨  
नर्स 175 7  
परिघारिका 651.29

### उपधिति

राशि 686 2  
संग्रहण 669.1

### उपधेतना

अवधेतन मन 352 3

### उपच्छद

घादर 593.17  
दक्कन 675 6

### उपज

आविष्कार 307 5  
उत्पत्ति 546.5  
उत्पाद 546 1  
कल्पना 308 1  
नई कल्पना 308 2  
फ़सल 547.1

### उपजन

उत्पत्ति 546.5

### उपजना

उत्पन्न होना 546.8  
उद्दिभद होना 117 12  
कल्पना में आना 308.11

### उपजमारी

कृषि महामारी 549.7

### उपजा [उपजी]

उत्पन्न 546.9

### उपजाई

उत्पादन 546 4

### उपजाऊ

उर्वर (भूमि) 552.16

### उपजाऊपन

भूमि उर्वरता 552.8

### उपजा ज्ञान

आंतरिक ज्ञान 305.4

### उपजात

उत्पादित 546.12

गौण उत्पाद 546.2

### उपजाना

उत्पादन करना 546.7

कृषि करना 548.33

### उपजाप

उकसाया 499.4

### उपजापक

उकसाने वाला 499.13  
कानाफूसी कर्ता 435.26

### उपजापित

उकसाया [उकसाई] 499 12

### उपजापी

उकसाने वाला 499.13  
कानाफूसी कर्ता 435.26  
घुगलखोर 843.26

### उपजिह्वा

उपजिह्वा 143 8 ⇨

### उपजीयिता

परावलंबितता 648.3

### उपज्ञा

आंतरिक ज्ञान 305.4  
जन्मजात ज्ञान 305 9

### उपज्ञात

आविष्कृत 307 17

### उपटाव

उपटाव 166.3 ⇨

### उपटाय

उपटाय 166 3

### उपतप्त

उत्पीड़ित 391 28

### उपतारी

नेत्र पुतली 141.5

### उपत्यका

घाटी 16.16  
तराई 16.14  
तलहटी 16 13

### उपदेश

घाट 200 11

### उपदिशा

उपदिशा 29.13 ⇨

### उपदिशा विषयक

उपदिशा विषयक 29.34 ⇨

### उपदिष्ट

दीक्षित 321.38  
धर्म दीक्षित 742.25

### उपदेय

देव योनि 772.36

### उपदेश

उपदेश 430.9 ⇨  
धर्म उपदेश 742.5  
नमाज़. उपदेश 751.12  
सीख 332.6

### उपदेशक

उपदेशक 430.24 ⇨  
धर्म उपदेशक 742.22  
धर्म शिक्षक 742.21  
वाइज़ 744.25

### उपदेश कथा

उपदेश कथा 745.41 ⇨

### उपदेश कथा

उपदेश कथा 450.14 ⇨

### उपदेश करना

उपदेश देना 430.14

### उपदेश देना

उपदेश देना 430.14 ⇨

### उपदेशान

शिक्षण 321 18

### उपदेशपूर्ण

बोधप्रद 301.31

### उपदेश मंत्र

उपदेश मंत्र 745.42 ⇨

### उपदेश सभा

सत्संग 749 21

### उपदेश्टा

उपदेशक 430.24  
धर्म उपदेशक 742.22  
परामर्शक 332 14

### उपद्रव

उपद्रव 903.1 ⇨

ऊधम 294.9

तकरार 708 7

भौतिक संकट 909.3

महामारी 163.7

हुल्लड़ 294 14

### उपद्रव करना

उपद्रव करना 903.13 ⇨

### उपद्रव कर्ता

उपद्रवकारी 903 17

### उपद्रवकारी

उपद्रवकारी 903.17 ⇨

### उपद्रवग्रस्त

उपद्रवग्रस्त 903.16 ⇨

### उपद्रवग्रस्तता

उपद्रवग्रस्तता 903.2 ⇨

शासनहीनता 894.1

### उपद्रवहीन

शांतिपूर्ण 906.13

### उपद्रवी

उपद्रवकारी 903.17

ऊधमी 294.32

### उपद्रष्टा

निरीक्षक 284.17

निर्माण पर्यवेक्षक 599.13

प्रत्यक्ष साक्षी 876.18

### उपद्वार

छोटा द्वार 608.13

पार्श्व द्वार 608.5

### उपधारणा

ध्यान 331.1

### उपधारा

उपनियम 879.4

नियम: उपधारा 879.3

### उपधि

पठिया 1077.1

### उपनगर

उपनगर 620.11 ⇨

### उपनदी

छोटी नदी 20.4  
सहायक नदी 20.3

उपनयन नमन 1080.4	निकट आसन ग्रहण 1028.2 प्रस्थान त्रयी सूची 740.11 वेदांत 740.44	प्रमाणन 327.3 उपपादित उपपन्न 328 10 प्रतिपादित 326.14 प्रदत्त 638 14 प्रमाणित 327.9 उपपादित करना उपपादित करना 328.7 ⇨	भोग 363 1 उपभोग करना उपभोग करना 524.10 ⇨
उपनयन निकट आनयन 1053.2	उपनिषदन निकट आसन ग्रहण 1028.2 संगति 696.1	उपपाद्य प्रतिपाद्य 326 15	उपभोगन उपभोगन 524.2 ⇨
उपनयन निकट आनयन 1053 2 शिक्षा आरम्भ सूची 321.3 सोलह संस्कार सूची 798.3	उपनिषद वाक्य महावाक्य 741 20	उपपाद्य उपपाद्य 326 15	उपभोग न करना उपभोग न करना 525.5 ⇨
उपनयन (हिंदू क्षिज) धर्म ग्रहण: विधि सूची 742 12	उपनिषद सूची उपनिषद सूची 740.13 ⇨	उपपाद्य उपपाद्य 326 15	उपभोगी उपभोगी 524 16
उपनयन कृत शिष्य उपनयन कृत शिष्य 798.21 ⇨	उपनिषदीय उपनिषदीय 740.60 ⇨	उपपाद्य गौण पाप 812.2	उपभोग्य उपभोग्य 524.15 ⇨
उपनयन संस्कार उपनयन संस्कार 798.20 ⇨	उपनिषादी गुरुकुल वासी 616.17	उपपीडन उत्पीडन 391.10	उपभोग्यता उपयोगिता 524.8
उपनयन संस्कार (दे.) विद्यारंभ संस्कार 798 23	उपनिष्क्रमण निष्क्रमण संस्कार 798 15	उपपुराण उपपुराण 740.16 ⇨	उपभोग्य वस्तु उपभोग्य वस्तु 686.2 ⇨
उप नहर उप नहर 23.4 ⇨	उपनीत निकट आनीत 1053 12	उपपोष्यक उपपोष्यक 1080.17 ⇨	उपभोज्य उपभोज्य 524 15
उपनाम उपनाम 315.3 ⇨	उपनेता (गुरु) पद्यपिता सूची 717 6	उपप्रधान उपाध्यक्ष 652.15	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपाधि 856.1	उपन्यास उपन्यास 450 8 ⇨	उपप्रदान अनुप्रदान 333 4	उपभोग्यता उपयोगिता 524.8
उपनायक उपनायक 467.7 ⇨	उपन्यासकार उपन्यासकार 448 11 ⇨	उपप्लव बाढ़ 22.1	उपभोग्य वस्तु उपभोग्य वस्तु 686.2 ⇨
जा 806.5	उपन्यास लेखक उपन्यासकार 448.11	उपबर्ह दलबल 691.2	उपभोज्य उपभोज्य 524 15
उपनायिका उपनायिका 467.11 ⇨	उपन्यासिका उपन्यासिका 450 9 ⇨	उपबर्ह साज सामान 558.6	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनाह वाद्य खूँटी 461.95	उपपति जा 806 5	उपबर्हण (पुनर्जन्म: नारद) गर्धर्य सूची 778.5	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनिधाता बंधक कर्ता 633 39	उपपति उपपति 328 1 ⇨	उपबर्हण पहुँचा 149 9	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनिधि धरोहर 633 27	उपपति तर्क 325.1	उपबर्हण शक्ति वर्धन 487 3	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
बधक वस्तु 633.26	उपपति तर्काधार 325 7	उपभयन उपभयन 602.10 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनिपात अप्रत्याशित घटना 75.6	उपपति परिणाम प्राप्ति 510 2	उपभाषा उपभाषा 421 2	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
आकस्मिक घटना 69.10	उपपति बाद सिद्धि 877 1	उपभुक्त उपभुक्त 524.14 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
छापा 914.8	उपपति (दे.) निदर्श 328.3	उपभुक्त भुक्त 363.13	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनिपात छुट्टी आकस्मिक अवकाश 494 10	उपपत्तीय तर्कीय 325.20	उपभुक्तता भुक्तता 363 2	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनियम उपनियम 879.4 ⇨	उपपत्नी रखेती 808 7	उपभुक्त न होना उपभुक्त न होना 525.4 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनिवेश उपनिवेश 881.11 ⇨	उपपद उपाधि 856.1	उपभुक्त होना उपभुक्त होना 524.9 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनिवेशक उपनिवेशक 881.36 ⇨	उपपन्न उपपन्न 328.10 ⇨	उपभुक्त होना उपभुक्त होना 524.9 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
बस्ती निर्माता 599.6	परिणामतः प्राप्त 510.11	उपभुक्त होना उपभुक्त होना 524.9 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनिवेशन नय आवासन 618.2	प्रमाणित 327.9	उपभुक्त होना उपभुक्त होना 524.9 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
बस्ती निर्माण 599.5	समाप्त (कार्य) 522.4	उपभुक्त होना उपभुक्त होना 524.9 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनिवेश वाद उपनिवेश वाद 884.13 ⇨	सिद्ध 877 22	उपभुक्त होना उपभुक्त होना 524.9 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनिवेशित उपनिवेशित 881.35 ⇨	उपपातक गौण पाप 812.2	उपभुक्त होना उपभुक्त होना 524.9 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनिवेशीय उपनिवेशीय 881.34 ⇨	उपपादक प्रतिपादक 326.16	उपभुक्त होना उपभुक्त होना 524.9 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपनिषद उपनिषद 740.12 ⇨	उपपादन उपपादन 328.2 ⇨	उपभुक्त होना उपभुक्त होना 524.9 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18
उपस्थिति 1021.2	प्रतिपादन 326.1	उपभुक्त होना उपभुक्त होना 524.9 ⇨	उपभोग्य उपभोग्य 524 18

## उपमाहीनता

उपमाहीनता  
अनुपमता 312.4  
उपमित  
उपमेय 309.9  
उपभित्ति  
उपमा 309.7  
उपमेय  
उपमा अलंकारः अग सूची 454.5  
उपमेय 309.9 ⇨  
उपयाज  
यजुर्वेद मंत्र 741.6  
उपयुक्त  
अनुकूल 885.37  
अर्हतासंपन्न 303.16  
अवसरानुकूल 70.14  
आवश्यकतानुकूल 524.22  
उपयोगी 524.18  
घरितार्थ 438.8  
तर्कपूर्ण 325.21  
पर्याप्त 941.6  
योग्य 303.14  
विनियोज्य 438.7  
संगत 438.6  
संसद योग्य 889.24  
सामंजस्यपूर्ण 702.6  
सुपात्र 303.15  
उपयुक्त अवसर  
उपयुक्त अवसर 70.3 ⇨  
प्रसंग अवसर 437.2  
उपयुक्त अवसर पर  
उपयुक्त अवसर पर 70.16 ⇨  
उपयुक्तता  
अवसरानुकूलता 70.2  
उपयोगिता 524.6  
योग्यता 303.1  
संगतता 438.1  
उपयुक्त स्थान  
उपयुक्त स्थान 70.5 ⇨  
उपयुक्त होना  
उपयोगी होना 524.12  
उपयोक्ता  
उपभोक्ता 524.16  
उपयोग  
उपभोग 524.1  
उपयोग करना  
उपभोग करना 524.10  
उपयोग कर्ता  
उपभोक्ता 524.16  
उपयोग में आना  
उपभुक्त होना 524.9  
उपयोग में न आना  
उपभुक्त न होना 525.4  
उपयोग में न जाना  
उपभोग न करना 525.5  
उपयोगहीन  
अनुपयोगी 525.8  
उपयोगित  
उपयुक्त 524.14

उपयोगिता  
उपयोगिता 524.6 ⇨  
उपयोगी  
उपभोग्य 524.15  
उपयोगी 524.18 ⇨  
उपयोगी बात  
बहुमूल्य गुर 517.5  
उपयोगी होना  
उपयोगी होना 524.12 ⇨  
उपयोज्य  
उपभोग्य 524.15  
उपसंज्ञित  
प्रभावित 511.13  
उपसंभ  
छोटा छिद्र 271.12  
उपसंभक  
अंगरक्षक 908.21  
उपसत्त  
निवृत्त 503.9  
विरक्त 366.6  
उपसत्ति  
विरक्ति 366.2  
उपसत्त्न  
अल्पमूल्य रत्न 96.4  
उपसंभ्या  
छोटी सड़क 1063.36  
उपसर्ना  
उदावन 593.3  
उत्तरीय 585.7  
उपसर्नी  
ओढ़नी 585.9  
उपसर्ला  
उपसर्ला 588.33 ⇨  
उपसर्ला [उपसर्ली]  
उत्तलीय 985.16  
उपसर्लात  
उत्तर काल में 60.17  
उपसर्लात 39.16 ⇨  
पुनः 73.5  
उपसर्लाततर  
उपसर्लात 39.16  
उपसर्लातता  
उपसर्लातता 39.7 ⇨  
उपसर्लाग  
रंग 289.1  
रागिनी 457.23  
उपसर्लाचड़ी  
प्रतियोगिता 707.2  
उपसर्लाम  
निवृत्ति 503.1  
विरक्ति 366.2  
उपसर्लालू  
अघनिष्ठ 697.17  
उत्तलीय 985.16  
उपसर्लालूपन  
अघनिष्ठता 697.6  
उत्तलीयता 985.3

उप राट्टपति  
उप राट्टपति 882.3 ⇨  
उपसिद्ध बभ्रु-अग्नि अक्सराः पुत्री  
सत्यवती 771.95  
उपसितन  
उच्छ 982.7  
उपसिलिखित  
उपसिलिखित 430.21 ⇨  
उपसिलिखितता  
उपसिलिखितता 430.6 ⇨  
उपसि ब्यय  
उपसि ब्यय 644.4 ⇨  
उपसि सत्य  
सत्याभास 821.8  
उपसिद्ध  
घेराबद 914.23  
उपसिद्धक  
नृत्य नाटक 483.9  
उपसि रेल मार्ग  
ब्रांच लाइन 1066.18  
उपसिनी  
ओढ़नी 585.9  
उपसिक्त  
उपसिलिखित 430.21  
उपसिद्ध  
डाट 675.11  
उपसिद्धक !  
अवरोधक 1047.28  
रोका 675.14  
उपसिद्धी  
रोका 675.14  
उपसिद्धित  
कलमी 548.54  
उपसिद्धित  
उपसिलिखित 430.21  
उपसिद्धितता  
उपसिलिखितता 430.6  
उपसिल  
उपसिल 96.8 ⇨  
ओला 54.15  
पाषाण 99.1  
रत्न सूची 96.5  
उपसिद्धित  
अनुमानित 308.20  
उपसिद्धय  
कारण 507.3  
उपसिद्धयता  
कारणता 507.2  
उपसिद्धय में  
कारणतः 507.7  
उपसिल प्राप्त  
ओला वर्षा 54.16  
उपसिद्ध  
उपसिद्ध 943.9 ⇨  
प्राप्त 837.8  
उपसिद्धयता  
उपसिद्धयता 943.1 ⇨

उपसिद्ध होना  
उपसिद्ध होना 943.5 ⇨  
उपसिद्धा  
अनुभूति कर्ता 263.11  
उपसिद्धि  
अनुभव 303.4  
उपसिद्ध 328.1  
उपसिद्धयता 943.1  
परिणाम प्राप्ति 510.2  
प्रतिफल 863.3  
प्राप्ति 637.2  
उपसिद्धि न होना  
प्रतिफल न मिलना 510.9  
उपसिद्धिहीन  
प्रतिफलहीन 510.14  
उपसिद्धिहीनता  
प्रतिफलहीनता 510.5  
उपसिद्धि होना  
प्रतिफल मिलना 510.7  
उपसिद्धा  
गोबरः उपसिद्धा 110.14  
उपसिद्धाभ  
आदान 637.1  
उपसिद्धा  
लिहाफः ऊपर का पल्ला 593.12  
उपसिद्धय  
उपसिद्धय 12.11 ⇨  
उपसिद्धय कर्म  
उपसिद्धय कर्म 12.27 ⇨  
उपसिद्धय कर्मी  
उपसिद्धय कर्मी 12.28 ⇨  
उपसिद्धय नगर वृक्ष  
उपसिद्धय नगर वृक्ष 13.1 ⇨  
उपसिद्धय पथ  
उपसिद्धय पथ 1063.19 ⇨  
उपसिद्धय परकोटा  
उपसिद्धय परकोटा 604.13 ⇨  
उपसिद्धय पुष्प  
उपसिद्धय पुष्प 14.1 ⇨  
उपसिद्धय पुष्प सूची  
उपसिद्धय पुष्प सूची 14.2 ⇨  
उपसिद्धय वायु सेवन  
उपसिद्धय वायु सेवन 1085.5 ⇨  
उपसिद्धय वृक्ष  
उपसिद्धय नगर वृक्ष 13.1  
शोभा वृक्ष 111.23  
उपसिद्धयर्णन  
विवरण 449.8  
उपसिद्धयर्थ  
उपसिद्धय 309.8  
उपसिद्धयक्य  
उपसिद्धयक्य 424.10 ⇨  
उपसिद्धयद  
निदा 843.1  
उपसिद्धयस  
अभोजन 181.5  
उपसिद्धयस  
दिवस 748.5  
व्रत उपसिद्धयस 748.1



उपवास अंत  
उपवास अंत 748.10 ⇨  
उपवास अंत करना  
उपवास अंत करना 748.18 ⇨  
उपवास: अंत भोजन  
उपवास: अंत भोजन 748.15 ⇨  
उपवास आरंभ  
उपवास आरंभ 748.9 ⇨  
उपवास आरंभ भोजन  
उपवास आरंभ भोजन 748.14 ⇨  
उपवास: आरंभ भोजन  
उपवास आरंभ भोजन 748.14 ⇨  
उपवास आहार  
उपवास आहार 748.13 ⇨  
उपवास: उपहार  
उपवास: उपहार 748.16 ⇨  
उपवासक  
उपवासक 748.19 ⇨  
उपवास करना  
उपवास रखना 748.17  
उपवास कर्ता  
उपवासक 748.19  
उपवासक होना  
उपवास रखना 748.17  
उपवास तोड़ना  
उपवास अंत करना 748.18  
उपवास दिवस  
उपवास दिवस 748.5 ⇨  
उपवास पर होना  
उपवास रखना 748.17  
उपवास पारण  
उपवास अंत 748.10  
उपवास भंग  
उपवास भंग 748.12 ⇨  
उपवास भ्रंश  
उपवास भंग 748.12  
उपवास रखना  
उपवास रखना 748.17 ⇨  
उपवास इत  
व्रत उपवास 748.1  
उपवास इती  
उपवासक 748.19  
उपवासशील  
उपवासक 748.19  
उपवासार्त  
उपवास अंत 748.10  
उपवासी [उपवासीनी]  
उपवासक 748.19  
उपवाहन  
निकट आनयन 1053.2  
उपविष्णय  
घोरी का माल विक्रय 861.6  
उपविक्रिता  
घोरी का माल: दुकानदार 861.12  
उप विद्या  
चीसठ कला 397.3  
उपविभाग  
उपविभाग 937.5 ⇨

गीण कोटि 936.3  
उपविष्ट  
आसीन 1028.10  
उपविच्छन  
उठ बैठन 1029.1  
उपवीत  
उपनयन संस्कार 798.20  
यज्ञोपवीत 798.22  
शालग्राम बटी 938.47  
उपवीती  
यज्ञोपवीत धारी 798.46  
उपवीथिका  
छोटी सड़क 1063.36  
उपवीथी  
छोटी सड़क 1063.36  
उपवेद्य  
उपवेद्य 740.36 ⇨  
उपवेश  
निकट आसन ग्रहण 1028.2  
उपवेशन  
निकट आसन ग्रहण 1028.2  
उपवेशित  
आसीन 1028.10  
उपवेष्टक  
वेष्टक 592.18  
उपवेष्टन करना  
वेष्टित करना 592.11  
उपव्याघ्र  
धीता 127.53  
उपशाम  
निवृत्ति 503.1  
विरक्ति 366.2  
विश्राम 494.1  
उपशल्य  
परिसर मार्ग 1063.22  
भाला 925.4  
उपशांति  
आरोग्य लाभ 171.11  
उपशाखा  
प्रशाखा 114.11  
उपशामक  
निवारक 920.18  
सात्त्वनापूर्ण 393.20  
उपशिक्षक  
उपाध्याय 323.12  
उपशीर्षक  
उपशीर्षक 447.19 ⇨  
उपश्रुत  
स्वीकृत 337.16  
उपश्रुति  
देव वाणी 742.8  
उपश्रोता  
कला उपश्रोता 399.2  
श्रोता 399.8  
उपसंख्यान  
जोड़ कर्म 954.2  
उपसंपादक  
संपादक सूची 445.16

उप संपादक कर्म  
उप संपादन 445.12  
उप संपादन  
उप संपादन 445.12 ⇨  
उपसंयम  
नियंत्रण कर्म 899.11  
संपर्क स्थापना 703.6  
उपसंयाद  
समझौता 877.5  
उपसंवीत  
तहाया [तहाई] 975.32  
उपसंवीतन  
लपेटन 575.2  
उपसंहरण  
उपपादन 328.2  
उपसंहार  
अंत 995.1  
उपपत्ति 328.1  
उपसंहार 466.18 ⇨  
कार्य समाप्ति 522.1  
नाटक फलागम 466.16  
संवरण 667.5  
सारांश 449.12  
उपसंहार करना  
उपपादित करना 328.7  
उपसंहृत  
उपपन्न 328.10  
समाप्त (कार्य) 522.4  
सिकुड़ा [सिकुड़ी] 980.28  
उपसदन  
निकट आगमन 1093.4  
उपसना  
दुर्घ फलाना 273.9  
उप सभापति  
उप सभापति 694.19 ⇨  
उपसमिति  
उपसमिति 692.21 ⇨  
उपसरण  
निकट आगमन 1093.4  
उपसर्ग  
उपसर्ग 425.18 ⇨  
परित्याग 1003.1  
उपसागर  
खाड़ी 24.5  
घोका मुँह: खाड़ी 24.8  
उपसृष्ट  
दैत्य सूची 783.19  
उपसूर्य  
सूर्य प्रकाश मंडल 287.5  
उपसूर्यक  
सूर्य प्रकाश मंडल 287.5  
उपस्कर  
उपकरण 558.7  
छरनीयर 595.1  
संघटक 545.3  
सामान 866.3  
उपसर्भक  
प्रोस्थापक 1062.32

उपसर्तभन  
प्रोस्थापन 1062.5  
उपसर्तभित  
प्रोस्थापित 1062.31  
उपसत्री  
रखेली 806.7  
उपस्थ  
इंद्रिय सूची 268.2  
गुदा 152.7  
नितंब 148.13  
पेड़ 148.9  
यान बैठका 1076.15  
स्त्री जननेंद्रिय 152.12  
उपस्थाता  
परिचय संस्थापक 704.21  
यज्ञ पुरोहित 753.17  
उपस्थापन  
स्मारण 356.8  
उपस्थित  
उपस्थित 1021.9 ⇨  
निकटस्थ 31.7  
वर्तमान 66.8  
उपस्थित (दे.)-  
आगत 1093.11  
उपस्थित करना  
प्रदान करना 638.6  
उपस्थित कर्ता  
उपस्थित कर्ता 1021.10 ⇨  
उपस्थितता  
वर्तमानता 66.1  
उपस्थितप्राय  
आसन्न 67.10  
उपस्थित होना  
उपस्थित होगा 1021.6 ⇨  
उपस्थिति  
उपलब्धता 943.1  
उपस्थिति 1021.2 ⇨  
निकटता 31.1  
पूजा 751.1  
पेशी 876.5  
वर्तमानता 66.1  
उपस्थिति (दे.)  
आगमन 1093.1  
उपस्थिति गणना  
उपस्थिति गणना 1021.4 ⇨  
उपस्थिति नोटिस  
समन 875.17  
उपस्थिति में  
उपस्थिति में 1021.12 ⇨  
उपस्वेदन  
आर्द्रण 88.17  
उपहत  
आहत 168.6  
लाघित 843.23  
उपहर्ता  
उपहार प्रदाता 840.15  
उपहस्ता  
हृदय 873.9

## उपहार

### उपहार

आहार अर्पण 183 23  
उत्तमता उपमान सूची 313.4  
उपहार 640.2 ⇨  
उपहार परिधान 583 22  
घड़ाया 750.12  
बलि वस्तु 754 2  
मंगल उपहार 796.2  
उपहार (दे.)  
दान 641 1  
उपहार कर  
उपहार कर 647 11 ⇨  
उपहार गौठ  
सजावटी गौठ 572 7  
उपहार देना  
उपहार देना 640 10 ⇨  
उपहार परिधान  
उपहार परिधान 583.22 ⇨  
उपहार परिधान सूची  
उपहार परिधान सूची 583.23 ⇨  
उपहार प्रदाता  
उपहार प्रदाता 640.15 ⇨  
उपहार प्रदान  
उपहार प्रदान 640 1 ⇨  
उपहार शेंट  
उपहार 640.2  
उपहार में देना  
उपहार में देना 640.11 ⇨  
उपहार वेष्टन  
उपहार वेष्टन 592 6 ⇨  
उपहारीय  
उपहारीय 640.12 ⇨  
उपहार्य  
उपहार्य 640.14 ⇨  
उपहास  
उपहास 844.1 ⇨  
विनोद 385 1  
व्यांग्य 844 5  
उपहास (दे.)  
कुख्याति 848 1  
निंदा 843.1  
उपहासक  
उपहास कर्ता 844.12  
उपहास करना  
उपहास करना 844.6 ⇨  
ताली पीटना 296.24  
उपहास कर्ता  
उपहास कर्ता 844 12 ⇨  
उपहासास्पद  
उपहास्य 844 11  
उपहासी  
उपहास कर्ता 844 12  
उपहास्य  
उपहास्य 844 11 ⇨  
उपहास्यता  
उपहास्यता 844.2 ⇨  
उपहित  
सहित 1006.2

### उपहृत

उपहृत 640 13 ⇨  
उपहृत करना  
उपहार देना 640 10  
उपहृत परिधान  
उपहार परिधान 583 22  
उपांग  
उपांग 139 9 ⇨  
उपांग 459 27 ⇨  
परिशिष्ट 447 10  
राग चार अंग सूची 459 26  
वेदोपांग 740 42  
उपात  
उपातिम 995 14  
किनारा 1000 10  
छोर 1000 3  
निकटता 31.1  
नेत्र कोर 141 4  
पड़ोस 31 3  
परिक्षेत्र 34 3  
उपांतर  
परिक्षेत्र 34 3  
उपांतरण  
उपांतरण 338 8 ⇨  
उपांतरण करना  
उपांतरण करना 338 23 ⇨  
उपांतरित  
उपांतरित 338.38 ⇨  
उपातिक  
उपातिम 995 14  
निकटस्थ 31 7  
उपातिम  
उपातिम 995.14 ⇨  
निकटस्थ 31 7  
उपात्य  
उपातिम 995.14  
उपाकर्म  
उपक्रम 521 4  
उपाकृत  
निर्मत्रित 1056 7  
उपाख्यान  
छोटी कहानी 450.10  
लोक कथा 450.7  
उपाख्यानक  
छोटी कहानी 450 10  
उपागत  
घटित 75.11  
उपागम  
निकट आगमन 1093.4  
संयोग 69 1  
उपाङ्गना  
उच्छेदन करना 1017.5  
उपादान  
आधार 596.1  
कच्चा माल 546.3  
कारण 507 3  
संघटक 545.3

### उपाधि

उपाधि 856 1 ⇨  
नाम 315.2  
लक्षण 317 5  
वंश नाम 315.7  
शिक्षा उपाधि 322 26  
उपाधित  
अलंकृत 854.23  
उपाधित करना  
अलंकृत करना 854 17  
उपाधि देना  
अलंकृत करना 854 17  
उपाधि पत्र  
डिप्लोमा 322 31  
उपाधि प्रदान  
अलंकार प्रदान 854 12  
उपाधिरहित ब्रह्म  
निर्गुण ब्रह्म 764 28  
उपाध्यक्ष  
उप सभापति 694 19  
उपाध्यक्ष 652.15 ⇨  
उपाध्याय  
उपाध्याय 323.12 ⇨  
ओझा 759 11  
विद्वान व्यक्ति 319.2  
उपाध्याय (दे.)  
अध्यापक 323 8  
उपाध्या  
पगडंडी 1063 47  
उपानह  
खड़ाऊँ 588 11  
उपाय  
उपाय 517 3 ⇨  
धिकित्सा 171 1  
युक्ति 517.1  
उपाय चतुष्टय  
नीति चतुष्टय 819.2  
उपायतः  
युक्तिपूर्वक 517 14  
उपायन  
निकट आगमन 1093.4  
उपायपूर्ण  
उपायपूर्ण 517.11 ⇨  
उपाय से  
युक्तिपूर्वक 517.14  
उपायहीन  
विकल्पहीन 518.5  
उपायहीनता  
विवशत 901.13  
उपायहीनता  
विकल्पहीनता 518.3  
उपारंभ  
आरंभ 894.3  
उपार्जन  
अर्जन 648.1  
उपार्जित  
अर्जित 648.8  
प्राप्त 637.8

### उपाधक

समर्थन याचक 329.26  
उपालंभ  
उपालंभ 843.13 ⇨  
डॉट 373 11  
मर्लना 843 6  
उपालंभित  
डॉट [डॉटी] 373.33  
उपायर्तन  
पुनरागमन 1093 5  
उपाश्रय  
आधार 596.1  
उपासंग  
निकटता 31 1  
उपासक  
बौद्ध साधारण जन 743.4  
उपासक [उपासिका]  
पूजक 751 3  
उपासन  
पूजन 751 2  
उपासना  
पूजा 751 1  
उपासना कक्ष  
उपासना कक्ष 745 14 ⇨  
उपासना करना  
पूजा करना 751.22  
उपासना गृह  
उपासना कक्ष 745.14  
देव मंदिर 745 30  
उपासना पद्धति  
धर्म 735 1  
उपासनालय  
उपासनालय 745.13 ⇨  
उपासना सेवा  
पूजा 751 1  
उपासना स्थल  
उपासना स्थल 745.15 ⇨  
उपासनीय  
पूजनीय 751.24  
उपासा  
ध्यान 331 1  
उपासा [उपासी]  
उपासाक 748.19  
उपासिका  
पुजारिन 744.8  
उपासित  
परिचरित 651.27  
पूजित 751.23  
उपासिता  
पूजक 751.3  
उपास्थि  
उपास्थि 133.2 ⇨  
उपास्थ्य  
पूजनीय 751.24  
उपाहार  
उपाहार 200.1 ⇨  
उपाहार गृह  
उपाहार गृह 194.2 ⇨

रेस्तोरों 194.8  
**उर्वेद**  
 कृष्ण 771.1  
 विष्णु 768.1  
**उपेक्षक**  
 अपमान कर्ता 855.13  
 उपेक्षक 185.8 ⇨  
**उपेक्षा**  
 अनवलोकन 284.2  
 अपमान 855.1  
 अवज्ञा 348.1  
 असात्कार 185.1  
 उपेक्षा 185.2 ⇨  
**उपेक्षा करना**  
 उपेक्षा करना 185.5 ⇨  
**उपेक्षा कर्ता**  
 उपेक्षक 185.8  
**उपेक्षा न करना**  
 उपेक्षा न करना 184.5 ⇨  
**उपेक्षित**  
 अपमानित 855.11  
 अवज्ञाकृत 348.6  
 उपेक्षित 185.7 ⇨  
**उपेक्षित करना**  
 उपेक्षा करना 185.5  
**उपेक्षी**  
 अपमान कर्ता 855.13  
**उपेक्ष्य**  
 अपमान्य 855.12  
**उपेत**  
 एकत्रित 667.12  
**उपीङ्ग**  
 निकट आनीत 1053.12  
 प्रदत्त 638.14  
 व्युहबद्ध 907.46  
 संवरित -867.18  
**उपीत**  
 कवचधारी 921.15  
**उपीत्पाद**  
 गीण उत्पाद 546.2  
**उपीद्घात**  
 पूर्व पीठिका 466.17  
 भूमिका 447.8  
**उपीषण**  
 व्रत उपवास 748.1  
**उपीहन**  
 निकट आनयन 1053.2  
 नञ् प्रवेश 468.26  
**उफनता [उफनती]**  
 ऊँची लहरों वाला 1040.33  
**उफनना**  
 अति क्रुद्ध होना 373.18  
 उँडलना 1032.18  
**उफना [उफनी]**  
 उँडला [उँडली] 1032.30  
**उफनाव**  
 उँडलाव 1032.4  
 उत्क्रांतन 21.2

**उफान**  
 उफान 91.3 ⇨  
 उबाल 91.2  
 क्रोध 373.1  
 बाढ़ 22.1  
 समुद्री तूफान 85.9  
**उफाल**  
 लंबा पद 1083.4  
**उफुक्र**  
 क्षितिज 2.4  
**उफकना**  
 वमन करना 215.29  
**उफकाई**  
 मिथलाहट 215.27  
**उफकी**  
 मिथलाहट 215.27  
**उफजन**  
 उदबुजन 117.3  
**उफजना**  
 उफजना 117.11 ⇨  
**उफजा [उफजी]**  
 उदबुजित 117.19  
 किण्वित 195.59  
**उफजाना**  
 किण्वित करना 195.44  
**उफटन**  
 उफटन 225.5 ⇨  
 उफटन 802.10 ⇨  
 बान तेल 800.30  
**उफटन आलेप**  
 सोलह सिंगार सूची 222.3  
**उफरन**  
 उफरन 1030.5 ⇨  
**उफरना**  
 उफरना 1030.15 ⇨  
**उफरा [उफरी]**  
 उदित 5.28  
 उफरा [उफरी] 1030.25 ⇨  
 सकटमुक्त 910.9  
**उफराई**  
 उफराई 1030.6 ⇨  
**उफराव**  
 उफरन 1030.5  
**उफलता [उफलती]**  
 अति उष्ण 104.20  
**उफलन**  
 औटन 91.4  
**उफलना**  
 आवेश आना 371.5  
 उँडलना 1032.18  
 उबलना 91.9 ⇨  
 क्रुद्ध होना 373.15  
**उफला [उफली]**  
 उँडला [उँडली] 1032.30  
 उबला [उबली] 91.11 ⇨  
 उबाल पक्व 195.75  
**उफलाई**  
 उबाल पक्व 195.35

**औटन** 91.4  
**उबलाव**  
 उँडलाव 1032.4  
 उबाल 91.2  
**उबसन**  
 जूना 218.14  
**उबसना**  
 दुर्गंध फैलाना 273.9  
 पूयित होना 169.12  
 बरतन मोजना 218.26  
**उबहन**  
 कूप रस्ती 19.8  
**उबहना**  
 उन्नतोदर होना 988.6  
 उलीघना 668.16  
**उबहनी**  
 कूप रस्ती 19.8  
**उबाऊ**  
 अरोचक 401.10  
 उबाऊ 401.15 ⇨  
**उबाऊपन**  
 अरोचकता 401.1  
**उबार**  
 उबराई 1030.6  
 संकट मोचन 910.1  
**उबारना**  
 सकट दूर करना 910.6  
**उबारने वाला**  
 उबारने वाला 1030.27 ⇨  
**उबारा**  
 उबराई 1030.6  
 पशु. पानी का होज 18.16  
**उबारा [उबारी]**  
 उगरा [उबारी] 1030.26 ⇨  
**उबाल**  
 उफान 91.3  
 उबाल 91.2 ⇨  
 क्रोध 373.1  
**उबाल आना**  
 उबलना 91.9  
**उबाल कर पकाना**  
 उबाल कर पकाना 195.55 ⇨  
**उबालना**  
 उबाल कर पकाना 195.55  
**उबाल पक्व**  
 उबाल पक्व 195.75 ⇨  
 पास्तेरीकृत 554.24  
**उबाल पक्वन**  
 उबाल पक्वन 195.35 ⇨  
 पास्तेरीकरण 554.9  
**उबालांक**  
 क्वथनांक 103.12  
**उबाला**  
 फदका 91.7  
**उबाली**  
 जैभाई 286.10  
**उबुद्ध**  
 आलोक वर्धित 285.47

**उबोधक**  
 उद्बोधक 499.11  
**उबोधन**  
 सबोधन 430.10  
**उभय**  
 दोनों 948.87  
**उभयचर जीव**  
 उभयचर जीव 121.5 ⇨  
**उभयचरः (त्र)**  
 उभयचर जीव 121.5  
**उभयवर्ध**  
 दुग्धिदा 501.1  
**उभय पक्षीय**  
 द्विपक्षीय 885.30  
 द्विपार्श्वीय 997.12  
**उभय परिधान**  
 उभय परिधान 583.11 ⇨  
**उभय लिंग**  
 उभय लिंग 425.48 ⇨  
**उभय वस्त्र परिधान**  
 उभय परिधान 583.11  
**उभयवादी वाद्य**  
 उभयवादी वाद्य 461.15 ⇨  
**उभयवेतन**  
 प्रतिगुप्तचर 866.16  
**उभयहस्तिक**  
 दुहत्या 487.29  
**उभयहस्तिकता**  
 दुहत्यापन 487.10  
**उभयार्थक**  
 द्यर्थी 426.37  
 संदिग्धार्थी 426.34  
**उभरता [उभरती]**  
 उदीयमान 5.29  
 उन्नतिशील 534.11  
**उभरती जवानी**  
 नवयौवन 231.1  
**उभरन**  
 प्रकटन 822.7  
**उभरना**  
 उन्नत होना 534.8  
 उन्नतोदर होना 988.6  
 प्रकट होना 822.17  
 प्रस्फुटित होना 119.6  
 युवा होना 231.11  
 विद्रोह करना 903.14  
 विशद होना 822.14  
**उभरा [उभरी]**  
 उदित 5.28  
 उन्नतोदर 988.9  
 प्रकट 822.27  
**उभरा उबर**  
 उभरा उबर 158.6 ⇨  
**उभरापन**  
 उन्नतोदरता 988.1  
**उभराव**  
 उँडलाव 1032.4  
 उपटाव 166.3

## उभरा स्तन

उभरा स्तन  
 उभरा स्तन 158.5 ⇨  
 उभरे स्तन वाली  
 उभरे स्तन वाली 158.28 ⇨  
 उभार  
 उन्नति 534.1  
 उन्नतोदरता 988 1  
 बाढ़ 22 1  
 उभारदार  
 उन्नतोदर 988.9  
 उभारना  
 पट्टी पढ़ाना 332.13  
 उभावन  
 अनुमानन 308 9  
 उत्प्रेरण 499 2  
 उभास  
 दीप्ति 287.16  
 उभंग  
 आनंद 382.1  
 उत्साह 491.1  
 मन तरंग 351 6  
 युद्ध उत्साह 907.3  
 लालसा 359 5  
 उभंगक  
 उत्साहप्रद 491 12  
 उभंगकारी  
 उत्साहप्रद 491 12  
 उभंग काल  
 वसंत काल 52 1  
 उभंगना  
 आनंदित होना 382 11  
 उँडलना 1032.18  
 उत्साहित होना 491.5  
 उभंगपूर्ण  
 उत्साहपूर्ण 491 9  
 उभंगहीन  
 उत्साहहीन 492 13  
 उभंगहीनता  
 उत्साहहीनता 492.1  
 उभंड  
 ऊर्ध्वगमन 1030.3  
 उभंडना  
 उँडलना 1032 18  
 उभंगन  
 उँडलाव 1032.4  
 उत्क्रोतन 21.2  
 उभंगना  
 आनंद ध्वनि करना 382 13  
 आनंदित होना 382.11  
 उँडलना 1032 18  
 बुमकना 1084.31  
 नाचना 462 26  
 उभंगा [उभंगी]  
 उँडला [उँडली] 1032 30  
 उत्साहित 491.10  
 उभंगाव  
 उँडलाव 1032.4  
 उत्क्रोतन 21.2

बाढ़ 22 1  
 उभंगना  
 धौकना 379 6  
 उभठाई  
 मरोइन 975 12  
 उभङ  
 आक्रमण 914 3  
 उभङन  
 उँडलाव 1032 4  
 उत्क्रोतन 21.2  
 उभङना  
 आनंदित होना 382.11  
 उँडलना 1032.18  
 उत्साहित होना 491.5  
 घूम घूम कर व्याप्त होना 981.9  
 मेघ समूह आना 55 12  
 मेघाच्छन्न होना 55.13  
 उभङना घुमङना  
 घूम घूम कर व्याप्त होना 981.9  
 उभङा [उभङी]  
 उँडला [उँडली] 1032.30  
 उभङाव  
 उँडलाव 1032 4  
 उत्क्रोतन 21 2  
 बाढ़ 22 1  
 उभदा  
 उत्तम 313.13  
 उभदापन  
 उत्तमतमता 313 3  
 उभर  
 आयु 229 1  
 उभर क़ैद  
 आजीवन कारावास 868 14  
 उभर क़ैदी  
 आजीवन बंदी 868.19  
 उभरा  
 दल नायक 852.6  
 सामंत 882 32  
 उभराव  
 दल नायक 852.6  
 पुरुष उपाधि सूची 856.2  
 सामंत 882.32  
 सार्धपति 657 14  
 उभरावी  
 दल नायकता 852 5  
 उभस  
 नमीदार गरमी 53.9  
 उभहना  
 आनंदित होना 382.11  
 उत्साहित होना 491.5  
 उभा  
 दुर्गा 776.7  
 पार्वती 776.9  
 उभाकांत  
 शिव 767.1  
 उभा जनक  
 हिमालय 17.7

उभानाथ  
 शिव 767 1  
 उभा महेश्वर  
 शिव पार्वती 767 3  
 उभासुत  
 गणेश 773.22  
 स्कंद 773 50  
 उभियाक  
 नीका सूची 1072 3  
 उभियाक (ऐस्किमो)  
 पनसुइया 1072 19  
 उभेठ  
 मरोड़ 975.11  
 उभेठन  
 मरोड़ 975.11  
 मरोड़न 975.12  
 उभेठना  
 चीनना 635 13  
 मरोड़ना 975 22  
 उभेठा [उभेठी]  
 मरोड़ा [मरोड़ी] 975.30  
 उभेश  
 शिव 767 1  
 उम्म  
 माता 717.7  
 उम्मत  
 इसलामी साधारण जन 743.2  
 धर्म 735 1  
 उम्मी  
 मुहम्मद 791 20  
 उम्मीद  
 अपेक्षा 359.3  
 आशा 375 1  
 प्रतीक्षा 1057 1  
 प्रत्याशा 375.5  
 उम्मीद न करना  
 अपेक्षा न करना 360.7  
 उम्मीद बर आना  
 इच्छा पूरी होना 361.7  
 उम्मीदवार  
 निर्वाचन प्रत्याशी 888.10  
 पद आवेदक 853.31  
 परीक्षार्थी 322.14  
 प्रत्याशी 375.10  
 उम्मीदवारी  
 पद आवेदकता 653 4  
 उम्मीद से होना  
 गर्भवती होना 241.13  
 उम्मुल किताब  
 कुरान 739.2  
 उम्म्  
 अलिक्र लाम मीम 741.31  
 उन्न  
 आयु 229.1  
 जीवनः अवस्था 229.15  
 दीर्घ काल 37.5  
 वय 229.11

उन्न भर  
 आयु पर्यंत 229.28  
 उन्नरसीद [उन्नरसीदा]  
 वृद्ध [वृद्धा] 232 10  
 उरंग  
 सर्प 123.10  
 उरंगम  
 सरीसृप 123.1  
 सर्प 123 10  
 उर  
 नगर 820.10  
 मन 351 2  
 वक्ष 146 1  
 स्तन 146 6  
 हृदय 146 5  
 उरग  
 सरीसृप 123.1  
 सर्प 123 10  
 उरगभूषण  
 शिव 767.1  
 उरगराज  
 वासुकि नाग 778 21  
 उरगाः (प्र)  
 सरीसृप जीव 121 12  
 उरगाद  
 मोर 126 68  
 उरगिनी  
 मादा सर्प 123 11  
 उरगी  
 मादा सर्प 123 11  
 उरभ्र  
 नर भेड़ 127 25  
 उरमज्ज  
 अहुरमज्ज 764 13  
 उरलम फुरलम  
 विविध सामग्री 669.4  
 उरला [उरली]  
 इस पार का 998.3  
 निकट तटवर्ती 25 33  
 उरली पार  
 सीमा के इस ओर 1001.45  
 उरवीक्षण  
 स्टैथोस्कोप 171 5  
 उरव्य  
 वैश्य 731.24  
 उरस  
 औरस 716.15  
 उरसिज  
 स्त्री स्तन 146 7  
 उरस्क  
 वक्ष 146.1  
 उरस्त्राण  
 वक्ष कवच 921.9  
 उरस्व  
 औरस 716.15  
 वक्षीय 146.12  
 सेनाग्र 933.1

**उरस्थता**  
 औरसता 716.2  
 वर्ण शुद्धता 731.30  
**उरावरण**  
 वक्ष आवरण 585.6  
**उरियाँ**  
 नग्न 590.16  
**उरियानी**  
 नग्नता 590.1  
**उरु क्रम**  
 लबा पद 1083.4  
**उरै**  
 इस पार 998.6  
**उरैब**  
 विकर्णता 1026.5  
**उरैबवार**  
 विकर्णयुक्त 1026.11  
**उरैबवी [उरैबवी]**  
 विकर्णयुक्त 1026.11  
**उरैबवी काट**  
 आड़ी काट 543.3  
**उरैबवीपन**  
 विकर्णता 1026.5  
**उरैह**  
 गुलकारी 577.15  
 धित्र 404.1  
 धित्राकन 404.24  
**उरैहन**  
 उत्कीर्णन 406.19  
**उरैहना**  
 उत्कीर्ण करना 406.36  
 धित्राकन करना 404.35  
**उरोज**  
 स्त्री स्तन 146.7  
**उरोभाग**  
 उरोभाग 585.71 ⇨  
**उर्जानी**  
 आकाश गंगा 1.14  
**उर्जित**  
 शक्तिशाली 487.20  
**उर्दू**  
 उर्दू 421.11 ⇨  
 उर्दू लिपि 409.5  
 भारत: राष्ट्रभाषा सूची 421.4  
 सेना 932.1  
 सेना छावनी 933.7  
**उर्दू लिपि**  
 उर्दू लिपि 409.5 ⇨  
**उर्दू लिपि: शैली सूची**  
 उर्दू लिपि: शैली सूची 409.6 ⇨  
**उर्दू हस्तलेख शैली सूची**  
 उर्दू हस्तलेख शैली सूची 412.8 ⇨  
**उर्क**  
 उपनाम 315.3  
 उर्क 315.4 ⇨  
**उर्कियत**  
 उर्क 315.4

**उर्मि**  
 लहर 1040.17  
**उर्मिल**  
 तरंगित 1040.30  
**उर्मिलता**  
 तरंगितता 1040.16  
**उर्मिला**  
 उर्मिला 770.19 ⇨  
 जनक. पुत्री सूची 770.29  
 लक्ष्मण पत्नी 770.50  
**उर्वर**  
 उर्वर (भूमि) 552.16  
 फलित 118.16  
 रघनाशील 527.15  
 वनस्पतियुक्त 111.31  
 सतानवान 239.9  
**उर्वर (भूमि)**  
 उर्वर (भूमि) 552.16 ⇨  
**उर्वरक**  
 रासायनिक उर्वरक 552.12  
**उर्वरक मिट्टी**  
 उर्वरक मिट्टी 552.14 ⇨  
**उर्वरण**  
 परागण 118.4  
 भूमि उर्वरण 552.9  
**उर्वरणहीन**  
 अनुर्वर (भूमि) 552.17  
**उर्वरता**  
 जनन क्षमता 238.1  
 भूमि उर्वरता 552.8  
 रघनाशीलता 527.3  
 संसंतानता 239.1  
**उर्वरा**  
 कृषि भूमि 552.1  
 संतानवती 239.10  
**उर्वरीकरण**  
 भूमि उर्वरण 552.9  
**उर्वशी**  
 अप्सरा सूची 782.3  
**उर्वाचक**  
 ककरी 190.12  
**उर्वाच**  
 खरबूजा 190.15  
**उर्बिजा**  
 सीता 770.66  
**उर्वीधर**  
 पर्वत 16.3  
**उर्ष**  
 उत्सव 58.1  
 उर्ष 57.49 ⇨  
 पुण्य दिवस 58.3  
**उर्ष (इसलाम)**  
 अर्जगल उत्सव 797.2  
**उर्लंगा**  
 नग्न स्त्री 590.3  
**उर्लुना**  
 उर्लीयना 688.16  
 छितराना 688.21

**उलझट**  
 उलझी लकी 573.9  
**उलझट पकना**  
 उलझना 573.14  
**उलझन**  
 अघरोध 1047.8  
 उलझन 573.6 ⇨  
 क्रमहीनता 992.1  
 खटराग 747.4  
 ग्रस्त भूति 1013.3  
 दिता 377.2  
 तकरार 708.7  
 दुबिधा 501.1  
 मार्ग भ्रम 1099.1  
 रोग विकृति 163.11  
 सकट 909.1  
 समस्या 333.11  
 हिचक 501.3  
**उलझनपूर्ण**  
 उलझा [उलझी] 573.20  
 समस्यात्मक 333.25  
**उलझनपूर्ण कर्मकांड**  
 खटराग 747.4  
**उलझन में पकना**  
 मार्ग भ्रम होना 1099.4  
**उलझनहीन**  
 सुलझा [सुलझी] 574.15  
**उलझना**  
 अटकना 1024.9  
 आसक्त होना 365.3  
 उलझना 573.14 ⇨  
 ग्रस्त होना 1013.16  
 छछाछ करना 385.12  
 तकरार करना 708.11  
 दुबिधा में होना 501.5  
 प्रेम करना 368.13  
 मार्ग भ्रम होना 1099.4  
 हिचकना 501.8  
**उलझा [उलझी]**  
 अथरुद्ध 1047.27  
 उलझा [उलझी] 573.20 ⇨  
 ग्रस्त 1013.24  
 दुबिधाग्रस्त 501.8  
 मार्गभ्रत 1099.7  
 समस्यात्मक 333.25  
**उलझा लच्छा**  
 उलझा लच्छा 573.8 ⇨  
**उलझाव**  
 उलझन 573.6  
 शब्दांडंबरपूर्ण तर्क 325.6  
**उलझी गौठ**  
 उलझी गौठ 573.7 ⇨  
**उलझी लकी**  
 उलझी लकी 573.9 ⇨  
**उलझी धिपके केरा**  
 जटा 137.7  
**उलझे बाल**  
 असंयुत केरा 223.6

**उलट**  
 विपरीत 310.7  
**उलटना**  
 अवसरवादी होना 827.12  
 क्रमहीन होना 992.4  
 क्रांति करना 903.15  
 जीतना 912.12  
 परिवर्तन करना 532.14  
 फिसलना 1084.37  
 वमन करना 215.29  
**उलटना पलटना**  
 विमर्श करना 330.16  
**उलट पलट**  
 उथल पुथल 532.4  
 उन्नति अवनति 532.3  
 क्रमहीनता 992.1  
**उलट पलट कर**  
 विचारितत 330.29  
**उलट पलट कर देखना**  
 विमर्श करना 330.16  
**उलट पुलट**  
 उथल पुथल 532.4  
 क्रांति 903.5  
 विमर्श 330.11  
**उलट फेर**  
 उथल पुथल 532.4  
**उलटबौसी**  
 विपरीतोक्ति 434.10  
**उलटा**  
 धीला 202.12  
**उलटा [उलटी]**  
 अधोमुख 1023.14  
 अवरोह क्रमिक 991.23  
 वाम पार्श्वीय 997.22  
 विपरीत 310.7  
 विपरीतवाची 426.40  
 विरोधी 886.7  
 सोदरशायी 1027.17  
**उलटाई**  
 पलटाव 1027.6  
**उलटा क्रम**  
 अवरोह क्रम 991.4  
**उलटा चौबना**  
 प्रतिकर्षित करना 1051.28  
**उलटा डंड**  
 डंड सूची 485.10  
**उलटापन**  
 अधोमुखता 1023.4  
 विपरीतता 310.2  
**उलटा पक्का**  
 वाम पृष्ठ 447.23  
**उलटा पक्का**  
 उलटा पक्का 588.18 ⇨  
**उलटा पुलटा [उलटी पुलटी]**  
 क्रमहीन 992.5  
**उलटा फेवा**  
 निटिंग स्टिच सूची 572.14

## उलटा लेटना

### उलटा लेटना

पेट के बल सोना 1027 10

### उलटाव

पलटाव 1027 6

### उलटा बन्नत

अनुपयुक्त अवसर 70 4

### उलटा शंख

वामावर्त शंख 461 80

### उलटा सीधा

विपरीतता उपमान सूची 310 13

### उलटा सीधा करना

पलटना 1027 14

### उलटासीधापन

क्रमहीनता 992 1

### उलटा होना

अधोमुख होना 1023 8

### उलटी

वमन 215 26

वमित पदार्थ 215 25

### उलटी करना

वमन करना 215 29

### उलटी गिनती

आरभ सकेत सूची 521.8

विपरीत गणना 950 2

### उलटी दस्त

हैजा 215.28

### उलटी परिक्रमा

प्रतिघटी परिक्रमा 1033 6

### उलटी स्थिति में होना

अधोमुख होना 1023.8

### उलटे

अधोमुखत 1023 18

अवरोहत् 991.30

प्रतिप्रवाह 1096 17

बाएँ 1098 31

विपरीततः 310 10

विरुद्धत 888 8

### उलटे जाना

पीछे जाना 1095 12

### उलटे फेरे

उलटे फेरे 800 26 ⇨

विवाह लोप 804.11

### उलटे हाथ

बाएँ 1098 31

### उलङ्घन

उँडेल 668.2

### उलप्य

रुद्र 767 34

### उलाकृत

प्रेम 368 1

### उलरुआ

असमभार 963 17

उलरुआ 1076.21 ⇨

### उलौक

डाक 786.6

नीका सूची 1072 3

### उलौकिया

डाकिया 444.21

### उलौकी

डाकिया 444 21

### उलौघना

लौघना 1097 12

### उलाङ्क

असमभार 963 17

### उलाङ्क संतुलन लकड़ी

उलरुआ 1076.21

### उलार

असमभार 963.17

### उलाहना

उपालंभ 843 13

### उलीघ

उलीघ 668.3 ⇨

### उलीघना

उलीघना 668 16 ⇨

### उलूक

इद्र 773 5

उल्लू 126 14

### उल्लूखल

ओखली 560 10

खली 556.6

### उल्लूपी

अर्जुन पत्नी सूची 771.38

नाग स्त्री सूची 778 24

सूँस 124.12

### उल्का

उल्का 36 ⇨

धिगारी 106 11

### उल्का खंड

उल्का खंड 37 ⇨

### उल्का पात

उल्का पात 3.8 ⇨

### उल्काभ्रम

उल्का खंड 37

### उल्था

अनुवाद 427 6

### उल्थाकार

अनुवादक 427 25

### उल्य

गर्भाशय 152.14

### उल्युक

धिगारी 106 11

### उल्लंघक

अतिक्रमक 1001.42

अयज्ञा कर्ता 348.7

नियम भजक 879.21

मर्यादा उल्लंघक 809.8

### उल्लंघन

अयज्ञा 348.1

नियम भजन 879.8

मर्यादा उल्लंघन 809.2

सीमातिक्रमण 1001.27

### उल्लंघन करना

मर्यादा लौघना 809.4

### उल्लंघनकारी

मर्यादा उल्लंघक 809 8

### उल्लंघित

अयज्ञाकृत 348 6

आक्रांत 914 18

### उल्लंघित

खड़ा [खड़ी] 1029 11

### उल्लल

स्पंदित 1039 18

### उल्लसित

आनदित 382.17

आलोकित 285 45

### उल्लाघ

आरोग्योन्मुख 171 22

### उल्लाघय

आरोग्य लाभ 171.11

### उल्लाप

उल्लाप 435.11 ⇨

### उल्लाप करना

उल्लाप करना 435 23 ⇨

### उल्लापी

घाटुकार 841 35

### उल्लास

अध्याय 447.2

आनंद 382 1

आरंभ 994 3

उत्साह 491.1

दीप्ति 287 16

### उल्लाखना

प्रसन्न करना 381 5

### उल्लासपूर्ण

आनदपूर्ण 382.16

### उल्लास शो

जुबिली शो 468.8

### उल्लासहीनता

उत्साहहीनता 492 1

### उल्लासानुभूति

सुख भ्रांति 342 2

### उल्लिखित

उत्कीर्ण 406 41

उल्लिखित 437.13 ⇨

ख्यात 847.3

घघित 436.9

वर्णित 449 24

### उल्लीड

मार्जित 218.36

### उल्लुंघन

लुंघन 1017.3

### उल्लू

उल्लू 126.14 ⇨

### उल्लू का पट्टा

उल्लू का पट्टा 480.3 ⇨

### उल्लू कौआ

शत्रुता उपमान सूची 706.22

### उल्लू बनाना

छल करना 827 14

मूर्ख बनाना 302.6

### उल्लू बोलना

निर्जन होना 617.10

### उल्लू सीधा करना

स्वार्थ साधन करना 712.12

### उल्लेख

अभ्युद्देश 437 5

उल्लेख 437.6 ⇨

घर्षा 436 1

प्रसंग 437.1

### उल्लेख करना

प्रसंग छेड़ना 437.9

### उल्लेखनीय

उल्लेखनीय 437.14 ⇨

गण्य 852 9

### उल्लेखनीयता

गण्यता 852 2

### उल्लोल

ऊँधी लहर 1040.19

### उल्य

गर्भाशय 152 14

जरायु 152 15

भग 152.13

भ्रूण 241.11

### उयाघ

उक्ति 434.1

### उशाना

शुक ग्रह 7 9

शुक्राचार्य 789 23

### उशाना पिता

भव 767.28

शिव 767.1

### उशीरक

गौंडर घास मूल 112 15

### उशीर मूल

गौंडर घास मूल 112 15

### उषण

अदरक 278.2

काली मिर्च 278.4

### उषस्त्री

सांध्य लालिमा 287 15

### उषा

उषा 774.14 ⇨

उषा 783.22 ⇨

दैत्य स्त्री सूची 783.21

प्रभात काल 47 4

प्रातः लालिमा 287 14

### उषा काल

प्रभात काल 47.4

### उषा कालीन

प्रभात कालीन 47.19

### उषानाथ

अनिरुद्ध 771.34

### उषारमण

अनिरुद्ध 771.34

### उषेश

अनिरुद्ध 771.34

### उषू

ऊँट 127 27

### उषू पत्नी

शपुरपुरा 126.72

उष्ट्रपाल  
ऊँटवान 1082 14  
उष्ट्रिका  
मादा ऊँट 127 28  
उष्ट्री  
मादा ऊँट 127.28  
उष्ण  
उष्ण 104.18 ⇨  
घरपरा [घरपरी] 278 12  
उष्ण कंद  
प्याज़ 281.24  
उष्ण काल  
ग्रीष्म काल 53 6  
उष्ण जलवायु  
उष्ण जलवायु 51 4 ⇨  
उष्णता  
उष्णता 104.1 ⇨  
ताप 103 1  
उष्ण नदी  
वैतरणी 256.4  
उष्णरश्मि  
सूर्य 8 1  
उष्ण लगना  
उष्ण लगना 104.15 ⇨  
उष्णांक  
कैलरी 103.9  
तापांक 103.11  
उष्णा  
ताप 103 1  
उष्णागम  
ग्रीष्म काल 53 6  
उष्णिमा  
ग्रीष्म अनुभूति 53 7  
उष्णीच  
पगड़ी 584.13  
उष्णीषी  
मुकुटधारी 899 18  
शिव 767.1  
उष्ण  
उष्ण 104.18  
नमीदार गरमी 53.9  
उष्णप  
पितृ 253.26  
उष्णा  
ग्रीष्म काल 53.6  
ताप 103.1  
उष्णाघात  
उष्णाघात 264.9 ⇨  
उस  
वह 316.14  
उस और  
उधर 30.8  
उसकाना  
उत्तेरित करना 499.5  
प्रोत्थापन करना 1062.24  
उस के उपरंत  
उस के उपरंत 39.20 ⇨

उस के पूर्व  
उस के पूर्व 60.21 ⇨  
उस के बाद  
उस के उपरंत 39 20  
उस के इत्थ होना  
प्रारब्धाधीन होना 260.20  
उस जैसा  
तदनुकृपी 967.18  
उस ज़रफ़  
उधर 30.8  
सीमा के उस पार 1001.46  
उस तरह  
वैसे 514 24  
उसना  
उसना चावल 187 10  
उसना चावल  
उसना चावल 187.10 ⇨  
उसनाना  
उबाल कर पकाना 195 55  
उस पर भी  
तदापि 507.15  
उस पार  
उस पार 998.7 ⇨  
दूरस्थ तट 25.14  
दूरी पर 32.10  
सीमा के उस पार 1001 46  
उस पार का  
उस पार का 998.4 ⇨  
उस प्रकार  
वैसे 514 24  
उस प्रकार का  
वैसा 317.31  
उस बार  
उस बार में 72 9  
उस बार में  
उस बार में 72.9 ⇨  
उसमान  
उसमान 791.13 ⇨  
उस लिए  
उस लिए 507.11 ⇨  
उससना  
आह भरना 386.18  
उस से पहले  
उस के पूर्व 60.21  
उससैस  
आह 386.4  
दीर्घ श्वास 245.8  
श्वास 245.4  
उससैस लेना  
आह भरना 386.18  
उससारा  
रीड 670 16  
उसी समय  
समकाल में 59.4  
उसूल  
आदर्श 829.4  
विधि (क्रानून) 878.1  
सिद्धांत 343.9

उसूली  
विधीय 878.25  
सैद्धांतिक 343 16  
उसूलों का पक्का  
आदर्शवादी 829 10  
उसुरा  
उसुरा 561 2  
उसुदा  
अति अनुभवी 303.18  
कुशल गायक 460.18  
गुरु 323.1  
दौबबाज़ 819 19  
प्रवीण 303.22  
प्रवीण व्यक्ति 303.9  
प्रशिक्षक 323.21  
बुद्धिमान 301.21  
मंच निर्देशक 468 11  
मरम्मत कर्मी 538.9  
महा विद्वान 319.3  
राग गायक 460.38  
विद्वान व्यक्ति 319.2  
विशेषज्ञ 305.36  
संगीत निर्देशक 460 3  
सिद्ध कलाकार 397 19  
उसुतादी  
कुटिलता 818 3  
गुरु भाव 323.2  
प्रवीणता 303 8  
उसुतानी  
अध्यापिका 323.9  
उसुरा  
उसुरा 561.2 ⇨  
उसुरा: धार चमका  
घमोटा 561 3  
उसुरा किराई  
केश मुंडन 224.5  
उसुरा फेरना  
केश मुंडना 224 12  
उसुमान  
उसुमान 791 13  
उस  
देवता 772.1  
उह  
वह 316 14  
उहो  
उधर 30.8  
सीमा के उस पार 1001 46  
उहार  
पालकी परदा 605.14

## ऊ

ऊँ  
आम् 741.19  
ऊँच  
झपकी 266.7  
तंद्रा 266.8  
मद पीनक 211.3

ऊँचता [ऊँचती]  
तंद्रिल 266 16  
ऊँचना  
तंद्रिल होना 266 12  
ऊँच  
उच्च कुलीनता 728 3  
उच्चता 982.1  
घड़ान 988 3  
ऊँच नीच  
असमकक्षता 851 2  
असमतलता 987 1  
असमतल भूमि 987.2  
असमव्ययहार 831 3  
उत्थान पतन 1035 10  
उन्नति अवनति 532.3  
कल्याण अकल्याण 710.1  
कुलीनता अकुलीनता 728.1  
जातीय भेदभाव 884.30  
लाम हानि 646 1  
विमर्श 330 11  
सुख दुख 390 1  
ऊँच नीच अभाव  
भेदभावहीनता 884 31  
ऊँचनीच बरतना  
असमव्ययहार करना 831.7  
ऊँच नीच बराबर करना  
समतल करना 986 8  
ऊँच नीच भिंटाना  
समकक्ष करना 851 4  
ऊँचा [ऊँची]  
उच्च 982.7  
उच्च कुलीन 728 15  
उच्च वर्णीय 731 32  
उड़ड़यनशील 1030 32  
उत्तम 313 13  
ऊँचा [परिधान] 583.24  
तीन घड़ानयुक्त 988 12  
प्रतिष्ठित 849.15  
महंगा [महँगी] 664.34  
महान 839.8  
लंबे क्रंद वाला 154 13  
ऊँचा [परिधान]  
ऊँचा [परिधान] 583.24 ⇨  
ऊँचाई  
उच्चता 982.1  
उत्तमतमता 313.3  
ऊँचाई माप 958.16  
क्रंद 154.2  
घड़ान 988.3  
पराकाष्ठा 534.3  
प्रतिष्ठा 849.2  
ऊँचाई कटाई  
ऊँचाई कटाई 986.5 ⇨  
ऊँचाई पर  
उच्चतः 982.12  
ऊँचाई माप  
ऊँचाई माप 958.16 ⇨

## ऊँचाई युक्त

### ऊँचाई युक्त

उच्च 982.7  
ऊँचा क्रम  
लंबा क्रम 154.3  
ऊँचा कुरता  
कुरती 585.37  
ऊँचा घराना  
उच्च कुल 728.2  
ऊँचा नीचा  
ऊँचा नीचा उपमान सूची 310.13  
ऊँचा नीचा [ऊँची नीची]  
असमकक्ष 851.6  
असमतल 987.6  
कुलीन अकुलीन 728.14  
ऊँचानीचापन  
असमतलता 987.1  
ऊँचा नीचा सुनाना  
भर्त्सना करना 843.17  
ऊँचा पटरा  
ऊँचा पटरा 595.15 ⇨  
ऊँचापन  
उच्चता 982.1  
ऊँचा पर्वत  
ऊँचा पर्वत 16.4 ⇨  
ऊँचा बोल  
गर्वान्ति 842.2  
ऊँचा मूल्य  
बहुमूल्यता 864.11  
ऊँचा शिर  
उन्नतमस्तकता 858.4  
ऊँची एबी  
ऊँची एबी 588.30 ⇨  
ऊँची एबी: जुला  
घड़ीवाँ 588.18  
ऊँची कूब  
ऊँची कूब 1086.5 ⇨  
ऊँची लहर  
ऊँची लहर 1040.19 ⇨  
ऊँची लहरों वाला  
ऊँची लहरों वाला 1040.33 ⇨  
ऊँचे  
उच्चतः 982.12  
ऊँचे भाव  
बहुमूल्यतः 664.38  
ऊँचे लोग  
कुलीन जन 728.5  
ऊँट  
उच्चता. उपमान सूची 982.13  
ऊँट 127.27 ⇨  
ऊँट कटारा  
ऊँट गाड़ी 1071.35  
ऊँट काठी  
कजाया 595.51  
ऊँट गाड़ी  
ऊँट गाड़ी 1071.35 ⇨  
ऊँट चमका  
ऊँट घर्म 582.7

### ऊँट घर्म

ऊँट घर्म 582.7 ⇨  
ऊँटबो  
उँटका 1076.20  
केन 1062.14  
ऊँटनी  
मादा ऊँट 127.28  
ऊँटनी सवार  
ऊँट सवार 1082.10  
ऊँट पहाड़ के नीचे से गुज़रना  
अभिमान मर्दित होना 911.7  
ऊँट: बोली  
बलबलाहट 298.23  
ऊँटवान  
ऊँटवान 1082.14 ⇨  
ऊँट सवार 1082.10  
ऊँट: शिशु  
ऊँट. शिशु 230.12 ⇨  
ऊँट सवार  
ऊँट सवार 1082.10 ⇨  
ऊँट हीदा  
महमित 595.52  
ऊँखल  
ओखली 560.10  
ऊँघर  
उबाऊ 401.15  
ऊँजक  
निर्जन स्थान 617.7  
पल्लवहीन 115.14  
ऊँटक नाटक  
अटकल के सहारे 947.29  
ऊँटपटौंग  
बकवासपूर्ण 428.25  
ऊँड  
आदस 637.6  
आनीत 1053.10  
एकत्रित 867.12  
बाहित 1061.18  
विवाहित 799.64  
ऊँडना  
अनुमान करना 308.13  
विचार करना 330.13  
ऊँडा  
ऊँडा नायिका 456.13  
विवाहित स्त्री 236.7  
विवाहिता 799.65  
ऊँडा नायिका  
ऊँडा नायिका 456.13 ⇨  
ऊँडि  
वहन 1061.1  
विवाह 799.1  
ऊँट  
पुत्रहीन 240.10  
मूर्ख व्यक्ति 302.2  
ऊँटक  
ऊँटक 129.2 ⇨  
ऊँटक सपूह  
स्नायु 131.13

### ऊँटकावली

त्वचा स्तर सूची 134.7  
ऊँति  
ऊँटक 129.2  
बुनाई कर्म 576.1  
सिलाई 577.1  
स्टिच 572.9  
ऊँतिनाशा  
ग्रीन 167.5  
ऊँद  
अगर 274.11  
ऊँद बिलाव 124.5  
ऊँदबत्ती  
अगर बत्ती 274.12  
ऊँद बिलाव  
ऊँद बिलाव 124.5 ⇨  
ऊँदबिलाव फ़र  
मिंक 582.19  
ऊँदा [ऊँदी]  
आई 88.27  
बैंगनी 289.56  
वर्षद 54.23  
ऊँधम  
उपद्रव 903.1  
ऊँधम 294.9 ⇨  
हुल्लड़ 294.14  
ऊँधम (दे.)  
नटखटपन 860.10  
ऊँधम मधाना  
उपद्रव करना 903.13  
ऊँधमी  
ऊँधमी 294.32 ⇨  
ऊँधव  
उद्व 771.44  
ऊँधा  
स्त्री स्तन 146.7  
ऊँधो  
उद्व 771.44  
ऊँन  
अपर्याप्त 942.17  
अल्प 942.13  
ऊँन 568.9 ⇨  
ऊँनी वस्त्र 579.9  
निकृष्ट 314.5  
पशु रोम 135.3  
ऊँनक  
अपर्याप्त 942.17  
अल्प 942.13  
ऊँनार्थक शब्द  
ऊँनार्थक शब्द 426.18 ⇨  
ऊँनी  
ऊँनी 568.16 ⇨  
ऊँनी कंबल  
ऊँनी कंबल 593.8 ⇨  
ऊँनी क्लासीन  
ऊँनी क्लासीन 593.38 ⇨  
ऊँनी चावर  
लोई 585.16

### शाल 585.17

ऊँनी दिवाल  
पट्ट 580.29  
ऊँनी वस्त्र  
ऊँनी वस्त्र 579.9 ⇨  
ऊँनोक्ति  
अल्पोक्ति 434.3  
ऊँपर  
अधिक 944.5  
उत्तल पर 985.19  
ऊँर्ध मार्ग 1030.4  
दस दिशा सूची 29.7  
दायित्व पर 895.14  
ऊँपर आना  
उदित होना 5.26  
उबरना 1030.15  
पनबुझी ऊँपर आना 1080.39  
ऊँपर उछालना  
उछालना 1052.15  
ऊँपर उठना  
उत्प्राप्त होना 21.28  
ऊँपर उठाना: कर्म  
प्रोत्थापन 1062.5  
ऊँपर ऊँपर  
उच्चतः 982.12  
बाहर बाहर 999.20  
ऊँपर ऊँपर से पत्ते कुतरना  
टूटना 181.44  
ऊँपर: कनरा  
घंद्रमाला 614.24  
ऊँपर का जबड़ा: अस्थि  
ऊँपर का जबड़ा अस्थि 133.9 ⇨  
ऊँपर का रास्ता  
ऊँर्ध मार्ग 1030.4  
ऊँपर की आमदनी  
रिश्त 865.9  
ऊँपर की ओर  
अधोमुखतः 1023.18  
आरोहतः 991.29  
ऊँपर के सात लोक  
सात लोक 258.5  
ऊँपर को उठना  
उन्नतोदर होना 988.8  
ऊँपर को तिरछा होना  
उन्नमित होना 1025.5  
ऊँपर चढ़ना  
उन्नत होना 534.8  
ऊँपर जाता [ऊँपर जाती]  
ऊँर्धगामी 1030.24  
ऊँपर जाता चक्र  
उच्चक्र 973.6  
ऊँपर जाना  
उड़ना 1030.18  
ऊँपर जाना [ऊँपर जाती]  
उन्नतोदरित होना 1081.45  
ऊँपर डालना  
ओड़ना 592.9



ऊपर तक  
ऊपर तक 1004.17 ⇨  
ऊपर तक भरना  
ऊपर तक भरना 1004.9 ⇨  
ऊपर तक भरा  
ऊपर तक भरा 1004.13 ⇨  
ऊपर निकल आना  
प्रोद्गत होना 988 7  
ऊपर निकलना  
ऊपर जाना 1030.14  
ऊपर निकलापन  
प्रोद्गतता 988 2  
ऊपर नीचे  
क्रमहीनत 992 7  
घतुर्दिशतः 29 36  
ऊपर नीचे अंदर बाहर  
घतुर्दिशतः 29 36  
ऊपर नीचे गति  
वेंकुल गति 1035 5  
पप गति 1035 7  
पिस्टन गति 1035 8  
ऊपर पारपथ्य  
ऊपर पुल 1065 9  
ऊपर पुल  
ऊपर पुल 1065 9 ⇨  
ऊपर फैकना  
उछालना 1052 15  
ऊपरला [ऊपरली]  
उत्तलीय 985.16  
ऊपर लिखा [ऊपर लिखी]  
उपरिलिखित 430.21  
ऊपरली खपरल  
ऊपरली खपरल 599 33 ⇨  
ऊपर से जाना  
ऊर्ध्व वहन करना 1062 22  
प्रोत्थापन करना 1062.24  
ऊपर से जाना: कर्म  
ऊर्ध्व वहन 1062.1  
ऊपर से जाने वाला  
ऊर्ध्व वाहक 1062.30  
ऊपर सेना  
ओढ़ना 592.9  
ऊपर वाला  
ईश्वर 764.1  
उच्च 982.7  
प्रारब्ध विधाता 280 7  
ऊपर बालिवी (बहु)  
धील 126.41  
परी 782.4  
ऊपर से  
अतिरिक्ततः 945.7  
दिखावटी तौर पर 825.7  
ऊपर से खींच कर उठाना: कर्म  
ऊर्ध्व कर्षण 1062.13  
ऊपर से गुजरना  
लौघना 1097.12  
ऊपर से जमना  
पपडियाना 990.29

ऊपर से नीचे  
अवरोहत 991.30  
ऊपर से नीचे काट  
खड़ी काट 543.5  
ऊपर से नीचे क्रम  
अवरोह क्रम 991 4  
ऊपर से नीचे तक  
अवरोह क्रमिक 991.23  
ऊपर से नीचे रेखा  
ऊर्ध्व रेखा 968.18  
ऊपर से पार गमन  
लघन 1097 7  
ऊपरी  
अघनिष्ठ 697 17  
अयास्तविक 821 20  
अस्वाभाविक 836 12  
उच्च 982 7  
उत्तलीय 985 16  
औपचारिकतापूर्ण 184 10  
दिखावटी 825 5  
पाखंडपूर्ण 825.6  
ऊपरी आमदनी  
अधि वेतन 643 27  
रिश्तत 865 9  
ऊपरी स्पर्ध  
उपरि व्यय 644 4  
ऊपरी जबड़ा  
ऊपरी जबड़ा 140.18 ⇨  
ऊपरी तल  
उत्तल 985 4  
ऊपरी तौर पर  
ऊपरी दृष्टिपातत 284 58  
दिखावटी तौर पर 825.7  
ऊपरी दृष्टिपात करना  
ऊपरी दृष्टिपात करना 284.43 ⇨  
ऊपरी दृष्टिपाततः  
ऊपरी दृष्टिपाततः 284.58 ⇨  
ऊपरी धार्मिकता  
धर्म पाखंड 825.3  
ऊपरी निवा  
व्याज निंदा 843.3  
ऊपरीपन  
अघनिष्ठता 697.6  
उत्तलीयता 985.3  
ऊपरी परत  
नू परपटी 9.9  
ऊपरी परिवर्तन  
ऊपरी परिवर्तन 532.6 ⇨  
ऊपरी प्रशंसा  
व्याज प्रशंसा 841.3  
ऊपरी ऋत्वाव  
भूत बाधा 759.7  
ऊपरी फेर  
भूत बाधा 759 7  
ऊपरी भ्रम  
उच्च भाग 982.5  
ऊपरी मंजिल  
ऊपरी मंजिल 812.6 ⇨

ऊपरी रूप  
बाह्य रूप 967.8  
ऊपरी हाशिया  
ऊपरी हाशिया 1000.13 ⇨  
ऊपरोक  
उपरिलिखित 430.21  
ऊब  
ऊब 401.3 ⇨  
जंभाई 266 10  
मनोरंजनहीनता 469.3  
ऊबट  
असमतल 987.6  
असमतल मार्ग 1063.10  
ऊबड़ खाबड़  
अगम्य 519.25  
असमतल 987 6  
ऊबड़खाबड़पन  
असमतलता 987 1  
ऊबड़ खाबड़ भूमि  
असमतल भूमि 987.2 ⇨  
ऊबड़ खाबड़ रास्ता  
असमतल मार्ग 1063.10  
ऊबना  
ऊबना 401.8 ⇨  
ऊबा [ऊबी]  
ऊबा [ऊबी] 401.14 ⇨  
ऊबाऊ  
उबाऊ 401 15  
ऊभट  
असमतल मार्ग 1063.10  
ऊमस  
नमीदार गरमी 53.9  
ऊरु  
जौघ 149.13  
ऊरु पर्व  
घुटना 149.14  
ऊरु फलक  
जौघ: अस्थि 133.18  
ऊर्ज  
ऊर्जायक 101.15  
शक्तिशाली 487.20  
ऊर्जक  
ऊर्जायक 101.15  
ऊर्जन  
ऊर्जायन 101.6  
गत्तरण 1046.1  
घार्जन 101.8  
ऊर्जस्वी  
शक्तिशाली 487.20  
ऊर्जस्वी [ऊर्जस्विनी]  
तेजस्वी 839.9  
बलिष्ठ 180.10  
स्फूर्त 491.13  
ऊर्जाक  
केलौरी 103.9  
ऊर्जा  
उत्साह 491 1  
ऊर्जा 101.1 ⇨

गतिक बल 1050.1  
प्राण तत्त्व 245 1  
शक्ति 487.1  
ऊर्जा देना  
ऊर्जायित करना 101 12  
ऊर्जायक  
ऊर्जायक 101.15 ⇨  
ऊर्जायन  
ऊर्जायन 101.6 ⇨  
घार्जन 101.8  
ऊर्जायित  
ऊर्जायित 101.14 ⇨  
ऊर्जायित करना  
ऊर्जायित करना 101.12 ⇨  
ऊर्जावान [ऊर्जावती]  
तेजस्वी 839.9  
स्फूर्त 491.13  
ऊर्जा विषयक  
ओर्ज 101.13  
ऊर्जा संचारण  
ऊर्जायन 101 6  
ऊर्जा स्रोत  
ईधन 110 1  
ऊर्जित  
ऊर्जायित 101 14  
गत्तरित 1046 21  
बलिष्ठ 160 10  
स्फूर्त 491.13  
ऊर्ण  
ऊन 568.9  
ऊर्णनाथ  
दानव सूची 783 13  
ऊर्णनाथि  
मकड़ी 122 36  
ऊर्णयाथि  
मकड़ी 122.36  
ऊर्णा  
गंधर्व स्त्री सूची 778.8  
ऊर्णा तंतु  
जाला 572.17  
ऊर्णापु  
ऊनी कंबल 593.8  
नर भेड़ 127.25  
ऊर्णा सूत्र  
ऊन 568.9  
ऊर्णर  
दीप्य 783.17  
ऊर्ध्व  
उच्च 982.7  
उन्नमित 1025.7  
ऊर्ध्वगत 1030.23  
ऊर्ध्व कर्षण  
ऊर्ध्व कर्षण 1062.13 ⇨  
ऊर्ध्व कर्षित  
ऊर्ध्व कर्षित 1062.36 ⇨  
ऊर्ध्व काया  
शरीर: ऊर्ध्व भाग 139.4

## ऊर्ध्व काष्ठ

ऊर्ध्व काष्ठ  
चीखट शीर्ष काष्ठ 609.2  
ऊर्ध्वकेश  
केतु 65  
ऊर्ध्वकोणीयता  
प्रतिक्षिजता 1020 4  
ऊर्ध्वग  
ऊर्ध्वगामी 1030 24  
ऊर्ध्वगत  
ऊर्ध्वगत 1030 23 ⇨  
ऊर्ध्वगमन  
ऊर्ध्वगमन 1030 3 ⇨  
ऊर्ध्व गमन  
नभोत्तरण 1081 18  
ऊर्ध्वगमन करना  
ऊपर जाना 1030 14  
ऊर्ध्वगामी  
ऊर्ध्वगामी 1030 24 ⇨  
घटानयुक्त 988 11  
ऊर्ध्वगामी चक्र  
उच्चक्र 973 6  
ऊर्ध्वता:  
उच्चत 982 12  
ऊर्ध्व तल  
उत्तल 985 4  
ऊर्ध्व तलीय  
उत्तलीय 985 16  
ऊर्ध्व तलीयता  
उत्तलीयता 985 3  
ऊर्ध्वता  
उच्चता 982 1  
ऊर्ध्व दिशा  
उच्च दिशा 982 4  
ऊर्ध्वदृष्टि  
महत्त्वाकांक्षी 508 9  
ऊर्ध्व देव  
विष्णु 768 1  
ऊर्ध्व नयन  
ऊर्ध्व वहन 1062 1  
ऊर्ध्व बिंदु  
खमध्य 2.5  
पराकाष्ठा 534 3  
ऊर्ध्व भाग  
उच्च भाग 982 5  
ऊर्ध्व मार्ग  
ऊर्ध्व मार्ग 1030.4 ⇨  
ऊर्ध्वमुख  
ऊर्ध्वमुख 1023 13 ⇨  
ऊर्ध्वमुखतः  
ऊर्ध्वमुखतः 1023 17 ⇨  
ऊर्ध्वमुखता  
ऊर्ध्वमुखता 1023 3 ⇨  
ऊर्ध्वमुख होना  
ऊर्ध्वमुख होना 1023.7 ⇨  
ऊर्ध्व रेखा  
ऊर्ध्व रेखा 968 18 ⇨  
ऊर्ध्वरेता  
ब्रह्मचारी 234 4

भीष्म 771 77  
शिव 767 1  
हनुमान 781.19  
ऊर्ध्वलिङ्गी  
शिव 767 1  
ऊर्ध्वलिखित  
उपरिलिखित 430 21  
ऊर्ध्व वहन  
ऊर्ध्व वहन 1062.1 ⇨  
ऊर्ध्व वहन करना  
ऊर्ध्व वहन करना 1062.22 ⇨  
ऊर्ध्व वहन कर्ता  
ऊर्ध्व वाहक 1062 30  
ऊर्ध्व वाहक  
ऊर्ध्व वाहक 1062.30 ⇨  
ऊर्ध्वरायी  
शिव 767.1  
ऊर्ध्वसानु  
घटानयुक्त 988.11  
ऊर्ध्वस्थ  
उच्च 982 7  
ऊर्ध्वग प्रतिमा  
आवक्ष मूर्ति 406.4  
ऊर्ध्वधर  
उन्नमित 1025 7  
ऊर्ध्वमुख 1023 13  
ऊर्ध्वधरता  
उन्नमितता 1025 2  
ऊर्ध्वोक्त  
उपरिलिखित 430 21  
ऊर्ध्वोक्तता  
उपरिलिखितता 430 6  
ऊर्ध्वोन्मुख  
ऊर्ध्वगामी 1030 24  
ऊर्मि  
जल प्रवाह 21 9  
प्रवाह 1041 1  
लहर 1040 17  
षड्क्लेश 761 18  
सवेग 1042.10  
ऊर्मिका  
कपड़ा. शिकन 975.8  
लहर 1040 17  
ऊर्मित  
ऊँची लहरों वाला 1040.33  
ऊर्मिमाला  
लहर माला 1040.23  
ऊर्मिमाली  
समुद्र 24.1  
ऊर्मिल  
ऊँची लहरों वाला 1040.33  
तरंगित 1040.30  
ऊर्मिलता  
तरंगितता 1040.16  
ऊर्मिला  
उर्मिला 770.19  
ऊर्म  
झील ' 8 4

ऊर्यी  
पृथ्वी 9.1  
ऊल जलूल  
असंगत 439.5  
फूहड़, 403.5  
बकवासपूर्ण 428.25  
ऊष  
ऊसर 552.3  
विदर 544 4  
ऊषक  
नमक 279.5  
ऊषर  
ऊसर 552.3  
नमकीन 279.10  
ऊषा  
उषा 774.14  
उषा 783.22  
प्रात लालिमा 287.14  
ऊषा पति  
भव 767 28  
ऊष्म  
उष्ण 104.18  
गरमागरम 197.40  
ऊष्मांक  
धर्म 103.10  
ऊष्मा  
उष्णता 104 1  
ताप 103 1  
ऊष्मागम  
ग्रीष्म काल 53 6  
ऊष्मानुभूति  
ताप 103.1  
ऊसर  
अनुर्वर (भूमि) 552.17  
ऊसर 552.3 ⇨  
ऊह  
अटकल 947.3  
ऊहन  
तर्कण 325.9  
विचारण 330.5  
ऊहा  
तर्क 325 1  
ऊहापोह  
दुबिधा 501.1

## ऋ

ऋक्-  
ऋग्वेद 740.30  
ऋक्ष  
नक्षत्र 4.5  
रीछ 127.80  
ऋक्षनाथ  
जांबवान 781.10  
ऋक्षनेमि  
विष्णु 768.1  
ऋक्षपति  
जांबवान 781.10  
ऋक्षराज  
जांबवान 781.10  
ऋक्षाः  
सप्तर्षि मंडल 3.10  
ऋक्षेश  
चंद्रमा 8.2  
ऋग्-  
ऋग्वेद 740.30  
स्तोत्र 741.16  
ऋग्वेद  
ऋग्वेद 740.30 ⇨  
घार वेद सूची 740.28  
तीन वेद सूची 740.26  
ऋग्वेद मंत्र वाचक  
ऋत्विक् 753 15  
ऋघा  
ऋघा 741.7 ⇨  
ऋघा 452.10 ⇨  
पूजा गीत सूची 749.26  
मंत्र 741 1  
वेद मंत्र 741.5  
वैदिक छंद 452.6  
ऋघाकार  
मंत्रर्षि 789 9  
ऋषीक  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
ऋष्-  
ऋग्वेद 740 30  
ऋजु  
अनुकूल 885.37  
अयक 974 17  
सज्जन 817.7  
सरल 817 8  
ऋजु गति  
सीधी गति 1098 10  
ऋजुता  
अनलंकृतता 227.2  
अवक्रता 974.2  
छलहीनता 815.3  
सीध 974.9  
ऋण  
अस्वीकारात्मक 338.32  
ऋण 633.7 ⇨  
ऋण त्रय 781 14  
कृतज्ञता 833.1  
ऋण अभावगी  
ऋण मोचन 633.8  
ऋण उठाना  
ऋण लेना 633.28  
ऋण छुटारना  
ऋण मोचन करना 633.29  
ऋणप्रस्त  
ऋणी 633.35  
ऋण चुकाना  
ऋण मोचन करना 633.29  
ऋण छवि  
निगेटिव 405.10

ऋण त्रय  
 ऋण त्रय 761.14 ⇨  
 ऋणत्रय सूची  
 ऋणत्रय सूची 761.15 ⇨  
 ऋणद  
 ऋण प्रदाता 633.34  
 ऋण दाता  
 बंधक ग्राही 633.19  
 ऋण पटाना  
 ऋण मोचन करना 633.29  
 ऋण पत्र  
 ऋण पत्र 633.14 ⇨  
 ऋण पत्र सूची 633.15  
 डिर्बैधर 628.18  
 ऋण पत्र सूची  
 ऋण पत्र सूची 633.15 ⇨  
 ऋण प्रदाता  
 ऋण प्रदाता 633.34 ⇨  
 ऋण प्रदान  
 ऋण प्रदान/633.8 ⇨  
 ऋण भुगतान  
 ऋण मोचन 633.8  
 ऋण भुगतान करना  
 ऋण मोचन करना 633.29  
 ऋणमुक्त  
 ऋणमुक्त 633.36 ⇨  
 ऋणमुक्त होना  
 ऋण मोचन करना 633.29  
 ऋण मुक्ति  
 पुनी विवाह 799.7  
 ऋणमुक्ति पत्र  
 ऋणमुक्ति पत्र 633.17 ⇨  
 ऋण मोचन  
 ऋण मोचन 633.8 ⇨  
 ऋण मोचन करना  
 ऋण मोचन करना 633.29 ⇨  
 ऋण लेना  
 ऋण लेना 633.28 ⇨  
 ऋण व्यवसाय  
 साहूकारा 633.3  
 ऋण शुल्क  
 व्याज 633.10  
 ऋणशोध  
 भुगतान शोध 639.2  
 ऋण शोधन  
 ऋण मोचन 633.8  
 ऋणहीन  
 ऋणमुक्त 633.36  
 ऋणात्मक  
 अस्वीकारात्मक 338.32  
 ऋणी  
 ऋणी 633.35 ⇨  
 कृतज्ञ 833.8  
 देयी 634.28  
 ऋतंबर [ऋतंबर]  
 सत्यनिष्ठ 820.21  
 ऋतंबरण  
 ईश्वरीय विधान धारण 878.20

ऋतंबरता  
 सत्य निष्ठा 820.9  
 ऋत  
 आदित्य 777.1  
 ईश्वरीय विधान 878.19  
 नैतिकतापूर्ण 815.5  
 पूर्व कर्मफल 260.9  
 यज्ञ 753.1  
 सत्य 820.1  
 सत्यतापूर्ण 820.20  
 सृष्टि धारक तत्त्व 529.3  
 ऋतता  
 सत्यता 820.2  
 ऋतधामना  
 विष्णु 768.1  
 ऋतध्वज  
 शिव 767.1  
 ऋतव्य  
 ऋतु कालीन 51.16  
 ऋतु  
 ऋतु 51.13 ⇨  
 यक्ष सूची 779.3  
 रज 130.9  
 ऋतु कालातीत  
 ऋतु कालातीत 51.18 ⇨  
 ऋतु कालीन  
 ऋतु कालीन 51.16 ⇨  
 ऋतु कालेतर  
 ऋतु कालेतर 51.17 ⇨  
 ऋतु दान  
 रति सयोग 237.10  
 ऋतु पुरुष  
 विष्णु 768.1  
 ऋतुमती  
 रजस्वला 130.13  
 ऋतुराज  
 वसंत काल 52.1  
 ऋत्तिक  
 ऋत्तिक 753.15 ⇨  
 ऋत्तिक को कन्या दान  
 देव विवाह 799.24  
 ऋत्विज  
 ऋत्तिक 753.15  
 ऋत्वीय  
 ऋतु कालीन 51.16  
 रजीय 130.12  
 ऋद्ध  
 समृद्ध 826.11  
 ऋद्धि  
 ऋद्धि 774.15 ⇨  
 कुबेर: पत्नी सूची 779.7  
 गणेश: पत्नी सूची 773.28  
 गौरव 849.4  
 लक्ष्मी 775.1  
 सफलता 512.1  
 समृद्धि 826.1  
 साधु सिद्धि 790.29

ऋद्धि सिद्धि  
 ऋद्धि सिद्धि 774.16 ⇨  
 धन संपत्ति 624.10  
 ऋधु  
 आदित्य 777.1  
 देवता 772.1  
 ऋरय  
 हिरन 127.42  
 ऋषभ  
 उत्तम 313.13  
 उत्तमता: उपमान सूची 313.4  
 ऋषभ देव 792.3  
 ऋषभ स्वर 459.8  
 कान: छिद्र 142.2  
 बेल 127.13  
 दानर सूची 781.7  
 विष्णु: चौबीस अवतार सूची 769.9  
 सप्तक स्वर सूची 459.6  
 ऋषभ देव  
 ऋषभ देव 792.3 ⇨  
 तीर्थकर सूची 792.2  
 ऋषभध्वज  
 शिव 767.1  
 ऋषभ स्वर  
 ऋषभ स्वर 459.8 ⇨  
 ऋषभी  
 विधवा 804.15  
 ऋषि  
 ऋषि 789.2 ⇨  
 धर्म शिक्षक 742.21  
 शिव 767.1  
 सात: उपमान सूची 948.30  
 ऋषि आश्रम  
 ऋषि आश्रम 745.4 ⇨  
 ऋषि ऋण  
 ऋणत्रय सूची 761.15  
 ऋषि कुमार  
 अल्पवयस्क ऋषि 789.3  
 ऋषि कुल  
 ऋषि आश्रम 745.4  
 ऋषि कृत  
 आर्ष 789.27  
 ऋषि गण  
 सप्तर्षि मंडल 3.10  
 ऋषि जनक  
 जनक 770.28  
 ऋषि देव  
 बोधिसत्त्व सूची 793.16  
 ऋषि पुत्रक  
 अल्पवयस्क ऋषि 789.3  
 ऋषि मुनि  
 ऋषि मुनि 789.1 ⇨  
 साधु संन्यासी 790.1  
 ऋषि मुनि सूची  
 ऋषि मुनि सूची 789.17 ⇨  
 ऋषि विवाह  
 आर्ष विवाह 799.21

ऋषि विषयक  
 ऋषि विषयक 789.26 ⇨  
 ऋषिसप्तमी  
 कृष्ण अर्जुन 771.52  
 ऋषि स्त्री  
 ऋषि स्त्री 789.24 ⇨  
 ऋषि स्त्री सूची  
 ऋषि स्त्री सूची 789.25 ⇨  
 ऋषी  
 कृष्ण अर्जुन 771.52  
 ऋषीय  
 ऋषि विषयक 789.26  
 ऋष्टि  
 दुधारी तलवार 924.8  
 ऋष्य  
 बारहसिंगा 127.46  
 ऋष्यकेतु  
 अनिरुद्ध 771.34  
 कामदेव 773.12  
 ऋष्यमूक गिरि  
 पौराणिक पर्वत सूची 17.8  
 ऋष्यशृंग  
 ऋषि मुनि सूची 789.17

## ए

एँच पेंच  
 छल 827.7  
 दौवपेघ 819.11  
 ध्रम 342.1  
 एअर (अँ)  
 वायु 85.1  
 एअरकेडीगानर (अँ)  
 वातानुकूलित्र 105.5  
 एअर कनवेक्टर (अँ)  
 कनवेक्टर 85.30  
 एअरकुलर (अँ)  
 एअरकुलर 105.6  
 एअरक्राफ्ट कैरियर (अँ)  
 एअरक्राफ्ट कैरियर 1072.44  
 एअर कू (अँ)  
 विमान कर्मी 1081.4  
 एअर क्रेश: (अँ)  
 विमान अवघात 1081.28  
 एअर पंप (अँ)  
 वायु पंप 85.26  
 एअरपोर्ट (अँ)  
 विमान पत्तन 1089.16  
 एअर प्रेशर (अँ)  
 वायु दाब 51.8  
 एअर प्रोर्स (अँ)  
 नभ सेना 932.17  
 एअर फ्रेटर (अँ)  
 मालवाहक विमान 1074.14  
 एअर बेस  
 एअर बेस 1089.17 ⇨  
 एअर बेस (अँ)  
 एअर बेस 1089.17

## एअर बैंग

एअर बैंग  
 एअर बैंग 444.12 ⇨  
 एअर बैंग (अं)  
 एअर बैंग 444.12  
 एअरबोट (अं)  
 जल विसर्पी नौका 1072.4  
 एअरबोर्न (अं)  
 नभोत्तरित 1081.51  
 एअर मिशन (अं)  
 विमान उड़ान 1081.11  
 एअरमीटर (अं)  
 वायु मापी 958.44  
 एअर मेल (अं)  
 हवाई डाक 444.24  
 एअर मेन (अं)  
 नभ सैनिक 934.11  
 एअरलाइंस (अं)  
 विमान कंपनी 1068.10  
 एअर लाइनर (अं)  
 यात्री विमान 1074.13  
 एअर वे (अं)  
 विमान मार्ग 1066.2  
 एअर वेव (अं)  
 वायु तरंग 1040.7  
 एअर सर्विस (अं)  
 विमान सेवा 1068.9  
 एअर स्क्व (अं)  
 प्रोपेलर 1078.17  
 एअर स्पीड (अं)  
 विमान गति 1081.31  
 एअरस्पेस (अं)  
 विमान आकाश 1081.35  
 एअरहीटर (अं)  
 वातानुतापित्र 104.10  
 एअरहीटिंग (अं)  
 वातानुतापन 104.9  
 एअर होस्टेस (अं)  
 विमान परिचारिका 1081.5  
 एअरो- (अं)  
 विमानकीय 1081.50  
 एअरोनॉम (अं)  
 विमान पतन 1069.16  
 एआईआर (बीजनाम) (अं)  
 आकाश वाणी 472.33  
 एकंगी  
 मूठदार उड़ा 923.6  
 एक  
 अद्वैत ईश्वर 764.6  
 अनुपम 312.17  
 अनेतर 945.6  
 अभिजित 539.13  
 ईश्वर 764.1  
 एक 948.17 ⇨  
 एकतापूर्ण 698.9  
 एकत्रित 667.12  
 एकविध 310.9  
 एकाकार 967.14  
 एकीकृत 698.10

पहला [पहली] 948.85  
 प्रत्येक 940.9  
 युतिहीन 1010.25  
 संयुक्त 1010.22  
 सत्य 820.1  
 सम्मिश्रित 1008.26  
 सर्वसहमत 337.21  
 एक अकेला [एक अकेली]  
 एकाकी 697.14  
 एक अधिक  
 एकोत्तर 940.11  
 एक अधिकता  
 एकोत्तरता 940.3  
 एक आँख वाला  
 काणा [काणी] 164.9  
 एक आध  
 अल्प 942.13  
 एक आयाम  
 एक आयाम 964.4 ⇨  
 एक आयामी प्रकल्प  
 रेखा 988.6  
 एक आयामी माप  
 रैखिक माप 959.1  
 एक उड़ान  
 एक उड़ान 1030.12 ⇨  
 एक: उपमान सूची  
 एक उपमान सूची 948.18 ⇨  
 एक एक  
 प्रत्येक 940.9  
 एक एक कर के  
 क्रमशः 991.28  
 एक एक डग  
 पद प्रति पद 1083.29  
 एक आँकार  
 ईश्वर 764.1  
 एक आकार 407.8 ⇨  
 एक और आधा  
 उद्योका 949.33  
 एक और चौथाई  
 सवाया 949.32  
 एकक  
 व्यक्ति 689.1  
 सेल 937.8  
 एकक परिवार  
 एकक परिवार 726.5 ⇨  
 एक कम  
 एकोन 940.12  
 एक कम होने का भाव  
 एकोनता 940.4  
 एक क्रम  
 पूर्णरातः 940.15  
 एक कला से हीन पूर्णिमा  
 प्रतिपदायुक्त पूर्णिमा 44.25  
 एक काल में वर्तमान सब बंश जन  
 कुल 726.8  
 एककुंडल  
 कुबेर 779.4  
 बलराम 771.74

शेषनाग 778.22  
 एककेंद्रिकता  
 संकेद्रता 971.11  
 एक के ऊपर एक  
 आरोहतः 991.29  
 एक के दो बनाना  
 मुनाफ़ाखोरी करना 865.22  
 एक कोढ़ी  
 बीस 948.55  
 एक खंडा [एक खंडी]  
 एक खंडीय 938.51  
 एकखंडीय  
 एकखंडीय 612.9 ⇨  
 एक खंडीय  
 एक खंडीय 938.51 ⇨  
 एकखंडीय  
 एकपार्श्वीय 997.11  
 एकखंडीयता  
 एकपार्श्वीयता 997.3  
 एक खेल  
 बाज़ी 475.9  
 एक गज और मीटर तक माप  
 लंबाई माप 958.12  
 एक गज या मीटर से बड़ा माप  
 दूरी माप 959.19  
 एकगाछी  
 सारंगा 1072.25  
 एकगोत्रता  
 सगोत्रता 729.2  
 एकगोत्रीय  
 सगोत्रीय 729.13  
 एकचक्र  
 चक्रवर्ती सम्राट 882.27  
 तानव सूची 783.13  
 साम्राज्य 881.10  
 एक चक्रावृत्ति  
 एक चक्रावृत्ति 1033.13 ⇨  
 एकचर  
 एकल कर्मी 700.23  
 पृथकचर 697.12  
 एकचर्या  
 एकल कर्म 700.4  
 एकचारिणी  
 पतिव्रता 805.6  
 एक चाल  
 नियंत्रित वेग 1043.2  
 एकचित्त  
 ध्यानमग्न 331.11  
 एकचेता  
 ध्यानमग्न 331.11  
 एकछत्र  
 चक्रवर्ती सम्राट 882.27  
 साम्राज्य 881.10  
 एकछत्रता  
 एकत्र 881.21  
 एकछत्राधिकार बाध  
 साम्राज्यवाद 884.12

एक छोड़ कर एक  
 एकतर संख्यक 949.28  
 एकज  
 सहोदर 723.27  
 एकजटा  
 कालिका 776.2  
 एक जन्म  
 आयु 229.1  
 एकजन्मा  
 निम्न वर्णीय 731.33  
 शूद्र 731.28  
 एकजवान  
 सर्वसहमत 337.21  
 एकजात  
 सहोदर 723.27  
 एक जाति  
 सजाति 730.4  
 एकजातीय  
 सजातीय 730.21  
 एकजान  
 घनिष्ठ 704.27  
 सम्मिश्रित 1008.26  
 एकजीव  
 सम्मिश्रित 1008.26  
 एकजूट  
 एकतापूर्ण 698.9  
 एक जूट  
 थोक में 666.15  
 एकजूटता  
 एकता 698.1  
 एक झटके में  
 एक बार में 72.5  
 एक झोंक में  
 एक बार में 72.5  
 एकटंगा [एकटंगी]  
 लंगड़ा 153.19  
 एकटक  
 टकटकी से 284.56  
 ताकते हुए 284.57  
 एकटक दृष्टि  
 ताक 284.14  
 एकटक देखना  
 ताकना 284.41  
 एक टोंग से चलना  
 लंगड़ाना 1084.40  
 एकठा  
 नौका सूची 1072.3  
 सारंगा 1072.25  
 एकड़  
 एकड़ 959.35 ⇨  
 एकड़ा  
 चक्रवर्ती सम्राट 948.17  
 एकड़े पर बिंदी दो  
 सी 948.70  
 एक डोली पान  
 दो सी पान. समुदाय 687.21  
 एकतंत्र  
 एकतंत्र 881.21 ⇨

एकसंज्ञावाच  
निरंकुशता वाद 884.4  
एकसंज्ञ सत्ता  
एकसंज्ञ 881.21  
एकसंज्ञ सत्तावाच  
निरंकुशता वाद 884.4  
एकसंज्ञी  
एकतारा 461.24  
एक तना: नीका  
सारंगा 1072.25  
एकतरफा [एकतरफ़ी]  
एकपाश्वीय 997.11  
एकतरफ़ापन  
एकपाश्वीयता 997.3  
एक तरह  
अधिविधत: 310.12  
एक तरह से  
अधिविधत: 310.12  
एकता  
ईश्वर. अद्वैतता 764.5  
एकता 698.1 ⇨  
घनिष्ठता 704.13  
संयुक्तता 1010.8  
सर्व सहमति 337.4  
सामूहिकता 690.2  
एकता अभाव  
एकताहीनता 699.1  
एकता न होना  
एका न होना 699.10  
एकतापूर्ण  
एकतापूर्ण 698.9 ⇨  
पारिवारिक 726.13  
एकतापूर्वक  
एकतापूर्वक 698.12 ⇨  
एकता भंग  
एकता भंग 699.2 ⇨  
एकता भंग कर्ता  
एकता भंग कर्ता 699.15 ⇨  
एकता भंग होना  
एकता भंग होना 699.11 ⇨  
एकतार  
अविराम 1049.10  
तारताम्यपूर्ण 1049.12  
सम्मिश्रित 1008.28  
एकतारा  
एकतारा 461.24 ⇨  
एकताल  
एकताल 458.39 ⇨  
एकता स्थापना  
एकता स्थापना 698.2 ⇨  
एकताहीन  
एकताहीन 699.14 ⇨  
एकताहीनता  
एकताहीनता: 699.20 ⇨  
एकताहीनता  
एकताहीनता 699.1 ⇨  
एकता होना  
एका होना 698.7

एकत्र  
एकत्रित 667.12  
एकत्रक  
एकत्रक 667.13 ⇨  
एकत्रण  
एकत्रण 667.1 ⇨  
केद्रण 971.7  
संग्रहण 669.1  
संयोजन 693.4  
समागमन 694.17  
एकत्रण निषेध  
निषेधाज्ञा 880.3  
एकत्रित  
एकतापूर्ण 698.9  
एकत्रित 667.12 ⇨  
एकीकृत 698.10  
केन्द्रित 971.21  
संग्रहित 669.19  
संराशित 667.16  
सघन 81.15  
समागत 694.31  
एकत्रित करना  
एकत्रित करना 667.7 ⇨  
एकत्रितता  
केन्द्रितता 971.6  
एकत्रित होना  
एकत्रित होना 667.6 ⇨  
एकत्रीकरण  
एकता स्थापना 698.2  
संग्रहण 669.1  
एकत्रीकृत  
संग्रहित 669.19  
एकत्रीभयन  
एकता स्थापना 698.2  
एकदंत  
गणेश 773.22  
एकदंष्ट्र  
गणेश 773.22  
एक चक्रा  
एकदा 72.6  
सुदूर भूत में 38.32  
एक दम  
अकस्मात् 69.13  
अवश्यमेव 68.21  
अवश्यमेव: उक्ति सूची 68.23  
एक नंबरी  
पूर्णाशत: 940.15  
प्रतिरूपत: 967.23  
संकल्पपूर्वक 500.16  
एकदल धान्य  
अनाज 187.1  
एकदलीय  
एकपक्षीय 885.29  
एकदलीयता  
एकपक्षीयता 885.6  
एकदा  
एकदा 72.6 ⇨  
सुदूर भूत में 38.32

एक दिन  
अनिकट भविष्य में 36.38  
अल्प काल 38.4  
एक दिन एक रात  
अहोरात्र 46.10  
एकदिल  
घनिष्ठ 704.27  
एकदिली  
एकता 698.1  
घनिष्ठता 704.13  
एक दिवसीय क्रिकेट मैच  
वन-डे क्रिकेट 477.3  
एकदिशत (प्र)  
डायरेक्ट करंट 102.4  
एकदिश करंट  
डायरेक्ट करंट 102.4  
एकदिशा मार्ग  
एकदिशा मार्ग 1067.4 ⇨  
एक दिशा में धुरी पर घूर्णन  
धुरी चक्रण 1033.1  
एक दूसरे को  
परस्परत: 703.12  
एक दूसरे में लय होने की क्रिया  
विलयन 21.26  
एक दूसरे से  
परस्परत: 703.12  
एक दो  
अल्प 942.13  
एक दो एक दो  
मार्च 1083.11  
एक दो तीन  
आरंभ संकेत सूची 521.8  
पूर्ण संख्या 949.11  
एक दो तीन चार (संगीत)  
आरंभ संकेत सूची 521.8  
एक दो तीन होना  
तीव्र पलायन करना 918.13  
एक दोड़  
एक धाव 484.2  
एक धर्म  
सहधर्म 735.9  
एकधा  
अधिविधत: 310.12  
एक धाव  
एक धाव 484.2 ⇨  
एक नंबरी  
कुटिल 818.7  
एक न एक दिन  
अनिकट भविष्य में 36.38  
एक न चलना  
बस न होना 900.6  
एक नज़र से देखना  
पक्षपात न करना 887.7  
समव्यवहार करना 830.5  
एकनयन  
काणा [काणी] 164.9  
कुबेर 779.4  
शिव 767.1

शुक्र ग्रह 7.9  
एकनिष्ठ  
एकनिष्ठ 826.10 ⇨  
एकनिष्ठता  
अनन्य भाव 752.10  
एकनिष्ठा  
अनन्य भाव 752.10  
एकनिष्ठा 826.3 ⇨  
विवाह निष्ठा 805.1  
एकनेत्र  
काणा [काणी] 164.9  
एकनी  
आना 629.9  
एकपक्षी  
एकपक्षीय 885.29  
एकपक्षीय  
एकपक्षीय 885.29 ⇨  
एकपाश्वीय 997.11  
एकपक्षीयता  
एकपक्षीयता 885.6 ⇨  
एकपाश्वीयता 997.3  
एकपतित्व  
पतिव्रत 805.4  
एकपति व्रत  
पतिव्रत 805.4  
एकपत्नी  
एकपत्नी व्रती 805.7  
एकपत्नी व्रत  
पत्नीव्रत 805.5  
एकपत्नी व्रती  
एकपत्नी व्रती 805.7 ⇨  
एक पद  
एक पद 1083.2 ⇨  
एकपदी  
पगडंडी 1083.47  
एक परिवारता  
पारिवारिकता 726.2  
एकपर्णा  
एकपर्णा 776.11 ⇨  
एक पाट: चावर  
एक पाट: चावर 593.19 ⇨  
एकपाटला  
एकपाटला 776.12 ⇨  
एकपात्रीय एकांकी नाटक  
भाग 483.15  
एकपाद  
रुद्र सूची 787.38  
शिव 767.1  
एकपार्श्वता  
एकपाश्वीयता 997.3  
एकपाश्वीय  
एकपाश्वीय 997.11 ⇨  
एकपाश्वीयता  
एकपाश्वीयता 997.3 ⇨  
एकपिंगल  
कुबेर 779.4  
एक पूरा दिन  
अहोरात्र 46.10

## एक प्रति शत

एक प्रति शत  
शतांश उपमान सूची 949.24  
एकप्राण  
घनिष्ठ 704.27  
एकप्राणता  
घनिष्ठता 704.13  
एकक्रसली  
एक क्रसली वनस्पति 111.4  
एक क्रसली वनस्पति  
एक क्रसली वनस्पति 111.4 ⇨  
एक बटा चार  
चीथाई 949.39  
एक बटा तीन  
तिहाई 949.38  
एक बटा दो  
आधा 949.37  
एक बार  
एकदा 72.6  
सुदूर भूत में 36.32  
एकबारगी  
अकस्मात् 69.13  
एकबारगी 634.38 ⇨  
पूर्णाशतः 940.15  
एक बार भी नहीं  
कभी नहीं 72.12  
एक बार में  
एक बार में 72.5 ⇨  
एक बार विवाहित  
एक बार विवाहित 799.68 ⇨  
एकबाल  
सौभाग्य 260.17  
एकभाव  
एकनिष्ठ 826.10  
एक भावः आधिक्य  
भाव विभोरता 358.14  
एक भाव आना  
भाव शबल होना 358.21  
एक भाव जाना  
भाव शबल होना 358.21  
एकभूम  
एकखंडीय 612.9  
एकमंजिला [एकमंजिली]  
एकखंडीय 612.9  
एकमत  
सर्वसहमत 337.21  
एकमतता  
सर्व सहमति 337.4  
एक मत से  
सर्वसहमतत 337.27  
एकमति  
सर्व सहमति 337.4  
एक मन से  
ध्यानपूर्वक 331.16  
एक माता से जन्म संबंध  
सहोदरता 723.17  
एकमात्र  
अनुपम 312.17  
एकमात्र 946.20 ⇨

एक मात्र उपाय  
विकल्पहीनता 518.3  
एकमात्र कर्ता  
सर्वसर्वा 652.12  
एकमात्रता  
अनुपमता 312.4  
एकमात्रता 946.10 ⇨  
विलक्षणता 312.3  
एक मात्रा  
लघु मात्रा 452.39  
ह्रस्व मात्रा 410.19  
एक मात्राः ताल  
लघु ताल 458.49  
एकमात्रिक  
ह्रस्व मात्रा युक्त 410.24  
एकमुरत  
एक बार में 72.5  
एकमेक  
सम्मिश्रित 1008.26  
एकमेकता  
नीर क्षीर मिश्रण 1008.3  
सम्मिश्रितता 1008.13  
एकमेक होना  
सम्मिश्रित होना 1008.19  
एकरंग  
एकविध 310.9  
सम्मिश्रित 1008.26  
एकरंगीय  
इकरंगा [इकरंगी] 289.71  
एकरस  
अपरिवर्तनशील 533.10  
एकविध 310.9  
सम्मिश्रित 1008.26  
एकरसता  
समतलता 986.1  
सम्मिश्रितता 1008.13  
एकरात्र यज्ञ  
यज्ञ सूची 753.2  
एकराय  
सर्वसहमत 337.21  
एक शय  
सर्व सहमति 337.4  
एकरुप्रा [एकरुप्री]  
एकपार्थीय 997.11  
एकरूप  
एकाकार 967.14  
सम्मिश्रित 1008.26  
एकरूपता  
एकाकारता 967.3  
समरूपता 967.10  
समानता 309.5  
एकरूपीय  
एकाकार 967.14  
एकल  
एक 948.17  
एकमात्र 946.20  
एकाकी 697.14

एकल कर्म  
एकल कर्म 700.4 ⇨  
एकल कर्मी  
एकल कर्मी 700.23 ⇨  
एकलक्ष्यप्रसता  
खद्यत 353.11  
एकल खेल  
एकल खेल 475.3 ⇨  
एकलकी  
एक लड़ीः माला 228.40  
एक लड़ीः माला  
एक लड़ीः माला 228.40 ⇨  
एकल रेल  
मोनोरेल मार्ग 1066.20  
एकलव्य  
एकलव्य 771.45 ⇨  
एकलिंग  
कुबेर 779.4  
शिव 767.1  
एकलीतापन  
एकमात्रता 946.10  
एकयधन  
शब्द. वधन सूची 425.45  
एकवर्गीय  
सहपाठी 323.27  
एकयस्त्रा  
रजस्यज्ञा 130.13  
एकवी [एकवी]  
पहला [पहली] 948.85  
एकविशति  
इकीस 948.57  
एकविध  
एकविध 310.9 ⇨  
एकविधतः  
अविधिधतः 310.12  
एक विवाह  
विवाह निष्ठा 805.1  
एकयेणी  
विधवा 804.15  
एक क्षुति  
तान 458.15  
एक समय  
सुदूर भूत में 36.32  
एक समय की बात  
पुरा कथा 450.13  
एक समय में  
समकाल में 59.4  
एक समय में नहीं  
भिन्न काल में 60.15  
एकसमान  
एकविध 310.9  
एक समान  
समकक्ष 851.5  
एकसमानता  
समकक्षता 851.1  
समानता 309.5  
एक समान होना  
एक समान होना 309.13 ⇨

एक सही एक बटा दो  
उधोका 949.33  
एक सही एक बटे चार  
सवाया 949.32  
एक सौस में  
एक बार में 72.5  
एक सा  
सदृश्य 309.20  
सममित 1026.8  
समरूप 987.20  
समान 309.22  
एक साथ  
अधिकतः 944.11  
एकतापूर्वक 698.12  
एकबारगी 634.38  
थोक में 686.15  
पार्श्वधरतः 696.28  
संग संग 696.26  
समूहतः 690.14  
एक सा न रहना  
परिवर्तन होना 532.13  
एकसापन  
सममिति 1026.2  
एकसार  
समकक्ष 851.5  
सम्मिश्रित 1008.26  
एकसारता  
समकक्षता 851.1  
एक सा होना  
एक समान होना 309.13  
एक सी दूरी  
समांतरता 1026.1  
एक सी दूरी पर चलना  
समांतर होना 1026.6  
एकसूत्र  
एकतापूर्ण 698.9  
उमरु 461.41  
पारिवारिक 726.13  
एकसूत्रता  
एकता 698.1  
पारिवारिकता 726.2  
एक से अधिक  
अनेक 940.10  
एक से दूसरे स्थान तक गमन  
संक्रमण 1091.3  
एक से नी तक संख्या  
एक से नी तक संख्या 948.16 ⇨  
एक सी  
सी. समुदाय 687.18  
एक सी अट्ठारसी भागः उपमान सूची  
एक से अट्ठारसी भागः उपमान सूची 949.25 ⇨  
एक सी आठ  
एक सी आठ 948.71 ⇨  
एक सी चवालीसः समुदाय  
एक से चवालीसः समुदाय 687.20 ⇨  
एक सी पचास प्रतिशत  
उधोका 949.33

एक सौ बयानवेकी भाग	एकांत कारवासा	एकांतिक कर्म	एकाग्रचित्तः
एक सौ बयानवेकी भाग 949.26 ⇨	एकांत कारवासा 868.17 ⇨	एकल कर्म 700.4	ध्यानपूर्वक 331.16
एक स्तर का करना	एकांतचर	एकांतिक कर्मी	एकाग्रचित्ता
समतल करना 986.8	पृथकचर 897.12	एकल कर्मी 70' 23	तल्लीनता 331.6
एकस्तरीयता	एकांतचरता	एकांतिकता	एकाग्रचित्त होना
समतलता 986.1	पृथकचर्या 897.1	नियतता 68.8	ध्यान करना 331.8
एकस्य	एकांतचर्या	एकांतिन	एकाग्रण
एक स्वामित्व 621.3	पृथकचर्या 897.1	एकाकी 897.14	ध्यानन 331.2
एक स्वामी 621.28	एकांतलः	एकांती	एकाग्रता
पेटेंट 621.14	एकांतलः 697.21 ⇨	पृथकचर 897.12	तल्लीनता 331.6
एक स्वर में	एकांतता	एका	समाधिस्थता 755.4
एकतापूर्वक 698.12	एकांतता 697.3 ⇨	एकता 698.1	एकाग्रता खंडन
एक स्वर से	निर्जनता 617.6	दुर्गा 776.7	ध्यान भंग 331.4
सर्वसहमततः 337.27	एकांतप्रिय	एकाएक	एकाग्रताहीनता
एकस्याधिकारी	अंतराभिमुखी 838.14	अकस्मात् 69.13	ध्यानहीनता 331.3
एक स्वामी 621.4	एकांतप्रिय होना	एकाएकी	एकाग्र होना
एक स्वामित्व	पृथक रहना 697.9	अकस्मात् 69.13	ध्यान करना 331.8
एक स्वामित्व 621.3 ⇨	एकांत प्रेमी	एकाकार	एकाग्रियत्तता
एक स्वामी	अंतराभिमुखी 838.14	एकाकार 967.14 ⇨	ज्ञान ध्यान 755.1
एक स्वामी 621.4 ⇨	एकांत बंदीकक्ष	घनिष्ठ 704.27	एकात्म
एक स्वामीय	काल कोठरी 868.24	सम्मिश्रित 1008.26	एकाकार 967.14
एक स्वामीय 621.26 ⇨	एकांत मार्ग	एकाकारता	घनिष्ठ 704.27
एकस्वी	एकांत मार्ग 1063.18 ⇨	एकाकारता 967.3 ⇨	एकात्मता
पेटेंट स्वामी 621.15	एकांत में	नीर क्षीर मिश्रण 1008.3	अद्वैत भाव 752.8
एक ही कथनः पुनः पुनः कथन	एकांत में 697.20 ⇨	एकाकिनी	घनिष्ठता 704.13
अनुलाप 435.9	एकांतर	दियोगिनी 388.9	साधारणीकरण 352.14
एक ही राग अलापना	एकांतर संख्यक 949.28	एकाकी	एकात्मवाद
अनुलाप करना 435.21	द्विसाप्लाहिक 71.17	अंतराभिमुखी 838.14	अद्वैतवाद 780.8
एक ही रास्ता	एकांतर संख्यक	अभिभ्रित 1008.30	एकादश
विकल्पहीनता 516.3	एकांतर संख्यक 949.28 ⇨	एकाकी 697.14 ⇨	ग्यारह 948.40
एक ही विधि	एकांतर संख्या	पृथकचर 697.12	ग्यारहवाँ [ग्यारहवीं] 948.97
विकल्पहीनता 516.3	एकांतर संख्या 949.7 ⇨	मित्रहीन 705.29	एकादशी
एक ही समय का	एकांतरा	विद्योगी 388.8	एकादशी 44.17 ⇨
समकालीन 59.3	एकांतरा 71.15 ⇨	एकाकीयन	एकाध बार
एक होना	एकांतरिक	अंतराभिमुखता 838.6	अल्पदा 72.10
एक होना 698.8 ⇨	एकांतर संख्यक 949.28	अभिभ्रण 1008.17	एकाधिक
एका होना 698.7	एकांतरित	एकांतता 697.3	अनेक 940.10
योगिक होना 1008.20	एकांतर संख्यक 949.28	एकाकी रहना	एकांतर 940.11
संगम होना 21.32	एकांत वास्त	पृथक रहना 697.9	एकाधिक उपाय
सम्मिश्रित होना 1008.19	पृथकचर्या 897.1	एकाकी होना	विकल्प 516.1
एकांग	एकांत वास्त करना	अकेला होना 697.10	एकाधिक जातीय
बुध ग्रह 7.5	पृथक रहना 897.9	एकाक्ष	अंतर जातीय 730.22
मंगल ग्रह 7.7	एकांत वासी	काणा [काणी] 164.9	एकाधिकता
एकांगी	पृथकचर 897.12	कीआ 126.22	अनेकता 940.2
एकपक्षीय 885.29	एकांत सेवन करना	दानव सूची 783.13	एकांतरता 940.3
एकपक्षीय 997.11	पृथक रहना 897.9	शिव 767.1	एकाधिक बार होना
एकांगी धारणा	एकांतसेवी	एकाक्षर मंत्र	पुनरावर्तित होना 73.3
पूर्व धारणा 343.8	एकाकी 897.14	ओम् 741.19	एकाधिक भाव
एकांगीय	एकांत स्थल	एकाग्र	भाव शबलता 358.15
एकपक्षीय 997.11	क्लीइस्टर 745.24	अविचल 500.15	एकाधिक माता से जन्म लेने
एकांगीयता	एकांत स्थान	तल्लीन 331.14	असहोदरता 723.20
एकपक्षीयता 997.3	एकांत स्थान 697.4 ⇨	समाधिस्थ 755.9	एकाधिकार
एकांत	निर्जन स्थान 617.7	एकाग्र चित्तन	एकतंत्र 881.21
एकांतता 897.3	एकांतिक	ज्ञान ध्यान 755.1	एक स्वामित्व 621.3
निर्जन 617.16	अवश्यभावी 68.15	ध्यान 331.1	एकाधिकार 621.10 ⇨
निर्जनता 617.6	नियत 68.16	एकाग्रचित्त	एकाधिकार वाद
निर्जन स्थान 617.7	पृथकचर 897.12	तल्लीन 331.14	निरंकुशता वाद 884.4
	मात्रा में नियत 948.17		

## एकाधिकारी

### एकाधिकारी

एक स्वामी 821.4

### एकाधिप

चक्रवर्ती सम्राट 882.27

### एकाधिपति

एक स्वामी 621.4

चक्रवर्ती सम्राट 882.27

### एकाधिपत्य

एक स्वामित्व 621.3

### एका न होना

एका न होना 699.10 ⇨

### एकायन

अभिसार स्थल 237.2

### एकामता

एकामता 964.5 ⇨

### एकामयीय

एकामयीय 964.22 ⇨

### एकार्णय

जल प्रलय 530.2

### एकार्थक

एकार्थी 426.35

### एकार्थक शब्द

एकार्थक शब्द 426.19 ⇨

### एकार्थी

एकार्थी 426.35 ⇨

### एकावधान

तल्लीनता 331.6

### एकावधानी

ध्यानी 331.12

### एकावलि

एक लड़ी माला 228.40

### एकाश्रय

एकनिष्ठा 826.3

### एकाश्रयी

एकनिष्ठ 826.10

### एकास्ती

एकादरी 44.17

### एकाड यज्ञ

यज्ञ सूची 753.2

### एका होना

एका होना 698.7 ⇨

### एकीकरण

एकता स्थापना 698.2

एकीकरण 698.3 ⇨

संयोजन 1010.10

सम्मिश्रण 1008.12

### एकीकृत

एकतापूर्ण 698.9

एकीकृत 698.10 ⇨

संयुक्त 1010.22

### एकीकृतता

संयुक्तता 1010.8

### एकीभवन

एकीभवन 698.4 ⇨

संगमन 21.21

### एकीभूत

एकीकृत 698.10

### एकेश्वरवाद

एकेश्वरवाद 780.16 ⇨

### एकोत्तर

एकोत्तर 940.11 ⇨

### एकोत्तर क्रम

आरोह क्रम 991.3

### एकोत्तरता

एकोत्तरता 940.3 ⇨

### एकोदक

श्राद्ध कर्ता 253.41

### एकोदरज

सहोदर 723.27

### एकोदरजता

सहोदरता 723.17

### एकोदरयता

खल 353.11

### एकोन

एकोन 940.12 ⇨

### एकोन क्रम

अवरोह क्रम 991.4

### एकोनता

एकोनता 940.4 ⇨

### एकोनविंशति

उनीस 948.54

### एक्का

इक्का 1071.37

### एजेंट

दलाल 659.2

### एजेंसी

दलाल संस्थान 659.4

### एजाज़

घमस्कार 379.4

### एजेंटी

दलाली 659.1

### एजेंसी कमीशन (अं)

दलाल शुल्क 659.5

### एजेंट (अं)

कर्मचारी 652.27

गुप्तचर 866.12

दलाल 659.2

### एजेंसी (अं)

दलाल संस्थान 659.4

दलाली 659.1

### एड

एड 555.21 ⇨

एडी 149.18

जूता एडी 588.28

नियंत्रण: उपमान सूची 899.27

### एड (अं)

वित्तीय सहायता 633.2

### एडक

नर भेड़ 127.25

### एडका

भेड़ 127.24

### एड लगाना

पशु वेग बढ़ाना 1043.12

### एडियो रणचना

अति परिश्रम करना 493.7

### एडी

एडी 149.18 ⇨

जूता एडी 588.28

ए.डी. (अं) (बीज रूप)

ईसा के बाद 42.5

### एडी: गौड

टखना 149.17

### एडी चोटी

विपरीतता. उपमान सूची 310.13

### एडी-पावांगुल छोर: पेर

घरण 150.9

एडी से चोटी तक का जोर लगाना

अति परिश्रम करना 493.7

### एण

हिरन 127.42

### एणी

मादा हिरन 127.43

### एतच्छाद

विश्वास 340.1

श्रद्धा 340.5

### एतद्वन्तर

इस के उपरांत 39.19

### एतदनुसूच

ऐसे 514.23

### एतदनुसार

ऐसे 514.23

### एतदुपरान्त

इस के उपरांत 39.19

### एतद्वकाल

इस बार में 72.8

### एतद्वकालीन

वर्तमान कालीन 36.21

### एतद्वपश्चात

इस के उपरांत 39.19

### एतदपूर्व

इस के पूर्व 80.20

### एतद्वार

विश्वास 340.1

### एतद्वारी

विश्वसनीय 340.13

### एतद्वामाद

श्रद्धा 340.5

### एतद्वार

रविवार 46.3

### एनीमा

एनीमा 216.11 ⇨

### एबीसी

आरंभिक ज्ञान 994.5

### एबीसी (अं)

ज्ञात मात्रा 946.7

साक्षरता 319.6

### एबीसीडी (अं)

वर्णमाला 410.1

### एबीसी मात्रा

ज्ञात मात्रा 946.7

### एभन

राग रागिनी सूची 457.24

### एयरकुलर

एयरकुलर 105.6 ⇨

### एयरक्राफ्ट कैरियर

एयरक्राफ्ट कैरियर 1072.44 ⇨

### एरंड

एरंड 196.16 ⇨

तिहलन सूची 196.14

### एरंड चारबुजा

पपीता 190.24

### एरण

आधार सूची 596.2

ठीहा 596.12

### एराळ

जलयान. पेंदा 1073.32

### एरिया (अं)

क्षेत्रफल 966.1

### एला

इलायची 281.8

बड़ी इलायची 281.10

### एलान

घोषणा 441.10

### एलापत्र

नाग 778.12

### एलीका

छोटी इलायची 281.9

### एवं

और 945.10

### एय

ही 945.9

### एय...अतः

कारण कार्य: उक्ति सूची 507.20

### एयज

प्रतिदान 641.7

### एयज में

स्थानापन्नतः 653.40

### एयजी

अंतरिम कालीन 60.12

स्थानापन्न 653.38

स्थानापन्न व्यक्ति 653.21

### एयमस्तु

एयमस्तु 710.30 ⇨

### एशिया

एशिया 27.1 ⇨

महाद्वीप सूची 26.5

### एयणा

इच्छा 359.1

याचना 642.1

### एयणिका

स्वर्ण: तराजू 962.15

### एयणी

स्वर्ण: तराजू 962.15

### एयिता

इच्छुक 359.21

### -एयी

इच्छुक 359.21

### एयी (अं)

आल्टरनेटिंग करंट 102.3



एह  
यह 316.11  
एहतिमात्र  
प्रबंध 655.5  
व्यवस्था 893.5  
एहतियात  
निवारण 920.4  
सायधानी 497.1  
एहसान  
उपकार 832.1  
एहसानमंद  
कृतज्ञ 833.8  
एहसानमंदी  
कृतज्ञता 833.1  
एहसान मानना  
कृतज्ञ होना 833.5  
एहसास  
अनुभूति 263.1

---

ऐ

ऐकर (अं)  
लंगर 1073.17  
सभा सघालक 694.20  
ऐक्लोर (अं)  
नत्थी 417.12  
ऐगल (अं)  
कोण 970.1  
ऐगल आयरन  
ऐगल आयरन 597.18 ⇨  
ऐगल आयरन (अं)  
ऐगल आयरन 597.18  
ऐगज़ाहटी (अं)  
धितानुभूति 353.3  
ऐच  
कर्चण 1051.7  
ऐचा ताना [ऐंथी तानी]  
भेगा [भेंगी] 164.11  
ऐचातानी  
खींचतान 708.4  
ऐचा पैचा  
घोटाला 865.8  
ऐचा बीचा [ऐंथी बींथी]  
कुडील 155.5  
ऐजल (अं)  
देगल 782.1  
ऐजिन (अं)  
इजन 1078.1  
ऐटरटेनमेंट (अं)  
मनोरंजन 469.1  
ऐटरटेनमेंट टेक्स (अं)  
मनोरंजन कर 647.23  
ऐटिमनी (अं)  
सीसा 94.14  
ऐटीक्लाईमैक्स  
ऐटीक्लाईमैक्स 463.30 ⇨  
ऐटीक्लाईमैक्स (अं)  
ऐटीक्लाईमैक्स 463.30

ऐटीक्लीकवाइज़ मूवमेंट (अं)  
प्रतिघटी . परिक्रमा 1033.6  
ऐटीथीसिस (अं)  
उत्तर पक्ष 324.13  
ऐटीथैटिक (अं)  
पुय रोधी 170.10  
ऐटेना (अं)  
टेलीविज़न ऐटेना 472.27  
ऐटैसिड (अं)  
प्रतिअम्ल 87.9  
ऐट्री (अं)  
प्रविष्टि 412.27  
प्रवेश मार्ग 1094.6  
लेखा प्रविष्टि 632.5  
ऐट्री परमिट (अं)  
प्रवेश अनुमति 1094.8  
ऐट्री क्रीस (अं)  
प्रवेश शुल्क 665.4  
ऐठ  
अकड 734.9  
अभिमान गति 1084.2  
इतराहट 860.5  
दर्प 858.5  
हठ 349.4  
ऐठन  
अतिसार 216.14  
अलबेट 975.10  
ऐठन 392.8 ⇨  
पेच: घुडी 1016.20  
बटाई 567.9  
मरोड 975.11  
ऐठना  
छीनना 635.13  
ठगना 864.49  
बटना 567.15  
मरोडना 975.22  
ऐठा [ऐंठी]  
मरोडा [मरोडी] 975.30  
ऐठाई  
मरोडन 975.12  
ऐठाना  
तानना 1013.19  
ऐठू  
अकडबाज़ 734.22  
ऐक  
अकड 734.9  
ऐक (अं)  
अध्याय: समापन सूचना 447.5  
ऐकना  
इतराना 860.15  
ऐकाना  
अंगड़ाई लेना 860.13  
इतराना 860.15  
ऐका बीका [ऐंकी बींकी]  
कुडील 155.5  
ऐकय  
चंद्रीय 8.10

ऐर  
अर्जुन 771.36  
ऐर 773.53 ⇨  
ऐरिक् 268.11  
बाली 781.13  
ऐर्रजालिक  
जादूगर 474.11  
तिलिस्मगर 474.14  
तिलिस्मी 474.38  
प्रेत साधक 759.13  
बाज़ीगर 473.18  
ऐर्रजालिक  
जादूगरनी 474.12  
ऐर्राणी  
शची 774.89  
ऐर्रि  
जयंत 773.29  
ऐर्रिक  
ऐर्र 773.53  
ऐर्रिक 268.11 ⇨  
ऐर्रिक ज्ञान  
प्रत्यक्ष ज्ञान 305.5  
ऐर्रिक दासता  
विलास 363.6  
ऐर्रिक सुख  
ऐर्रिक सुख 390.5 ⇨  
ऐर्रिक सुख ही चरम सुख है  
भोगवाद 760.21  
ऐर्रिय  
ऐर्र 773.53  
ऐर्री  
छोटी इलायची 281.9  
दुर्गा 776.7  
शची 774.89  
ऐर्रीथी (अं)  
सहभावना 352.15  
ऐर्रीथियन (अं)  
शोरुम 862.6  
ऐर्रीथ्यमेट ऐक्लॉज (अं)  
रोज़गार कार्यालय 850.2  
ऐर्रुलेंस  
ऐर्रुलेंस 1070.11 ⇨  
ऐर्रुलेंस (अं)  
ऐर्रुलेंस 1070.11  
ऐर्रीसी (अं)  
राजदूतावास 443.13  
ऐर्रीस्टर (अं)  
राजदूत 443.10  
ऐर्रियन (अं)  
पदक 857.7  
प्रतीक चिह्न 408.2  
ऐकनासिजमेंट (अं)  
आयक पत्र 1054.9  
ऐकमत्य  
सर्व सहमति 337.4  
ऐकॉसिक  
अखंडनीय 326.19  
अपवादहीन 879.23

वितांत अतिम 995.15  
ऐकॉस्य  
साधारणीकरण 399.16  
ऐ कारा  
कारा 375.12  
ऐकुपंक्कर  
ऐकुपंक्कर 172.17 ⇨  
ऐक्ट (अं)  
अधिनियम 879.5  
नाटक अंक 463.25  
ऐक्टर (अं)  
अभिनेता 464.5  
ऐक्टिंग (अं)  
अभिनय 464.2  
तदर्थ नियुक्त 653.39  
ऐक्ट्रेस (अं)  
अभिनेत्री 464.6  
ऐक्य  
एकता 698.1  
ऐक्युपंक्कर (अं)  
ऐकुपंक्कर 172.17  
ऐकिडिटिव (अं)  
प्रत्यायित 327.15  
ऐकिलिक  
ऐकिलिक 581.2 ⇨  
ऐकिलिक (अं)  
ऐकिलिक 581.2  
ऐकिलिक रंग  
ऐकिलिक रंग 290.5 ⇨  
ऐकिलीन (अं)  
रासायनिक वस्त्र सूची 579.15  
ऐक्लामरीन (अं)  
रत्न सूची 98.5  
ऐक्लोरियम (अं)  
मत्स्य कुंड 603.11  
ऐक्ल (अं)  
अज्ञात राशि: प्रतीक 952.9  
कल्पित मात्रा 948.5  
ऐक्ल क्रोमोसोम  
ऐक्ल क्रोमोसोम 130.3 ⇨  
ऐक्ल क्रोमोसोम (अं)  
ऐक्ल क्रोमोसोम 130.3  
ऐक्लट्रीडीशन (अं)  
प्रत्यर्पण 868.11  
ऐक्लपर्ट (अं)  
प्रवीण 303.22  
ऐक्लपर्टीचर टेक्स (अं)  
व्यय कर 647.12  
ऐक्लपेरिमेंट (अं)  
नव प्रयोग 307.8  
ऐक्लपेरिमेंटर (अं)  
प्रयोग कर्ता 307.20  
ऐक्लपोज़ करना  
फोटोग्राफी करना 405.28  
ऐक्लपोर्ट इंपोर्ट (अं)  
आयत निर्यात व्यापार 857.8  
ऐक्लप्रेस (अं)  
समाचार पत्र 445.1

## ऐतस्सप्लोजन (अँ)

ऐक्सप्लोजन (अँ)  
विस्फोट 544 8  
विस्फोट प्रणोदन 1051 5  
ऐक्स मात्रा  
कल्पित मात्रा 946.5  
ऐक्सरा (बोलचाल)  
ऐक्सरे फोटो 171.7  
ऐक्सरे  
ऐक्सरे फोटो 171 7  
ऐक्सरे फोटो  
ऐक्सरे फोटो 171 7 ⇨  
ऐक्सरे फोटो (अँ)  
ऐक्सरे फोटो 171 7  
ऐक्सल (अँ)  
अक्ष दड 1077 12  
ऐक्सलरेटर  
ऐक्सलरेटर 1078.13 ⇨  
ऐक्सलरेटर (अँ)  
ऐक्सलरेटर 1078 13  
ऐक्सलरेटिंग (अँ)  
वेग वर्धन 1043 6  
ऐक्सवाईज़ेड (अँ)  
अज्ञात मात्रा 946 6  
ऐक्सवाईज़ेड मात्रा  
अज्ञात मात्रा 946 6  
ऐक्साइज़ (अँ)  
उत्पादन कर 647 14  
ऐक्सिल ट्री (अँ)  
अक्ष दड 1077 12  
ऐक्सिस (अँ)  
अक्ष 1077 11  
ऐक्सिट (अँ)  
स्वराघात 411 8  
ऐक्सिट्रिक (अँ)  
उत्केंद्रीय 971.24  
ऐक्सिट्रिक सर्कल (अँ)  
उत्केंद्र चक्र 973.2  
ऐक्सिट्रिसिटी (अँ)  
उत्केंद्रता 971 10  
ऐक्सोर्टस (अँ)  
स्वीकृति 337.1  
ऐक्सट्रा  
ऐक्सट्रा 464 19 ⇨  
ऐक्सट्रा (अँ)  
ऐक्सट्रा 464 19  
ऐक्सट्रा कापी (अँ)  
अतिरिक्त प्रति 414 3  
ऐक्सैशन (अँ)  
सात्त्विक अभिनय 464 27  
ऐग्जास्ट (अँ)  
धुआँ धिमनी 106 21  
ऐग्जास्ट (संक्षेप)  
ऐग्जास्ट पाइप 106 22  
ऐग्जास्ट पाइप  
ऐग्जास्ट पाइप 106.22 ⇨  
ऐग्जास्ट पाइप (अँ)  
ऐग्जास्ट पाइप 106 22

ऐगिजेंट (अँ)  
निर्गम मार्ग 1092 3  
ऐगिजेंट परमिट (अँ)  
निर्गम अनुमति पत्र 1092 7  
ऐगिजेंट पास (अँ)  
निर्गम पत्र 1092 6  
ऐग्रीबिट (अँ)  
प्रदर्श 876.20  
ऐग्रीबिटर (अँ)  
फिल्म प्रदर्शक 470 6  
ऐग्रीबिशन हॉल (अँ)  
चित्र दीर्घा 471 21  
प्रदर्शनालय 669 17  
ऐग्रीमा  
ऐग्रीमा 165.5 ⇨  
ऐग्रीविटिव (अँ)  
प्रबंधक 655 9  
ऐगमार्क  
ऐगमार्क 621 19 ⇨  
ऐगमार्क (अँ)  
ऐगमार्क 621 19  
ऐग्रिकल्चरल (अँ)  
कृषीय 548 46  
ऐग्रीमेंट (अँ)  
अनुबंध पत्र 339 2  
सहमति 337.3  
ऐग्रेशन (अँ)  
उग्रानुभूति 353 4  
ऐगिंग (अँ)  
अन्त उत्कीर्णन 406 21  
ऐगिचक  
ऐगिचक 359 17 ⇨  
ऐजेंडा (अँ)  
सभा कार्य सूची 993 4  
ऐटम (अँ)  
परमाणु 78 10  
ऐटम बम  
आतिशबाज़ी सूची 56.6  
ऐटम बम (अँ)  
आणविक बम 927 16  
ऐटमिक वेट (अँ)  
आणविक भार 962 59  
ऐटमी  
परमाणविक 78 26  
ऐट ईडम (अँ)  
अक्रमतः (घयित) 1009 23  
ऐटलस  
ऐटलस 10.19 ⇨  
ऐटलस (अँ)  
ऐटलस 10 19  
पृथ्वीधर सूची 9 3  
ऐटोल (अँ)  
प्रवाल द्वीप वलय 97.6  
ऐड (अँ) (बीज रूप)  
विज्ञापन कृति 442.5  
ऐडजुस्ट  
ऐडजुस्ट 935 6 ⇨

ऐडजुस्ट (अँ)  
ऐडजुस्ट 935.6  
ऐडक्लिम (बीज नाम) (अँ)  
विज्ञापन फिल्म 472 9  
ऐडमिनिस्ट्रेशन (अँ)  
शासन 890 1  
ऐडमिशन (अँ)  
आप्रवेश 1002 2  
दीक्षा 321 5  
ऐडमिशन देना  
आप्रवेश देना 1002 14  
ऐडल्ट (अँ)  
वयस्क 229 21  
ऐडवर्ट (अँ) (संक्षिप्त)  
विज्ञापन कृति 442.5  
ऐडवर्टाइज़र (अँ)  
विज्ञापक 442 4  
ऐडवेंचर (अँ)  
साहसिक यात्रा 1087 4  
ऐडवेंचर (अँ)  
साहसिक यात्री 1087 5  
ऐडवेंटयादी  
ऐडवेंटिस्ट 736 19  
ऐडवेंटिस्ट (अँ)  
ऐडवेंटिस्ट 736 19  
ऐडवैट  
ऐडवैट 5४.56 ⇨  
ऐडवैट (अँ)  
ऐडवैट 57 56  
ऐडवैटिस्ट  
ऐडवैटिस्ट 736.19 ⇨  
ऐडवोकेट (अँ)  
वकील 874 26  
ऐडवोकेट जनरल (अँ)  
महाधिक्ता 874.27  
ऐडवॉटेशन (अँ)  
रूपांतरण 397.31  
ऐडिंग मशीन  
ऐडिंग मशीन 950.15 ⇨  
ऐडिंग मशीन (अँ)  
ऐडिंग मशीन 950.15  
ऐडिटर (अँ)  
संपादक 445.15  
ऐडिटर इन चीफ़ (अँ)  
संपादक 445 15  
ऐडिटिंग (अँ)  
फिल्म संपादन 472 21  
संपादन 445.11  
ऐडिटोरियल (अँ)  
संपादकीय लेख 445.24  
संपादन विभाग 445 13  
ऐडिटोरियल डिपार्टमेंट (अँ)  
संपादन विभाग 445.13  
ऐडिटोरियल फेज (अँ)  
संपादकीय पृष्ठ 447.25  
ऐडीशन (अँ)  
पत्र पत्रिका पुस्तकः संस्करण 445.5  
ऐडिशन (अँ)  
पत्रांकन 631.13

ऐड्रेस (अँ)  
पता 444 13  
ऐडरार्ज़  
आपत्ति 326 4  
ऐडरैय उपनिषद  
उपनिषद सूची 740 13  
ऐतिहासिक  
ऐतिहासिक 76.10 ⇨  
पारंपरिक 795.13  
प्राचीन 63.6  
भूत कालीन 36 18  
ऐतिहासिक अवशेष  
पुरा अवशेष 77 2  
ऐतिहासिक कहानी  
इतिहास कथा 450.15  
ऐतिहासिकता  
अतीतता 63 3  
पारंपरिकता 795 2  
प्राचीनता 63 1  
ऐथलीट  
ऐथलीट 485.5 ⇨  
ऐथलीट (अँ)  
ऐथलीट 485 5  
ऐथलेटिक्स  
ऐथलेटिक्स 485.4 ⇨  
ऐथलेटिक्स (अँ)  
ऐथलेटिक्स 485.4  
ऐन  
थन 146 10  
नेत्र 141 1  
लक्ष्य पर 931 26  
स्त्री स्तन 146 7  
ऐनकॉसिस (अँ)  
अनुलग्नक 1010.5  
ऐनक  
घरमा 283.2  
ऐनक्लेव (अँ)  
परिसर 604.1  
ऐनक्लोज़ करना  
अनुलग्न करना 1010.15  
ऐनक्लोज़र (अँ)  
पत्र अनुलग्नक 444 4  
ऐनक्लोफिंग (अँ)  
अनुलग्नन 1010.3  
ऐनक्लोफ़ड (अँ)  
अनुलग्न 1010 21  
ऐनप्रैवर (अँ)  
उत्कीर्ण कर्ता 406.20  
ऐनप्रैविंग (अँ)  
उत्कीर्ण कृति 406.24  
उत्कीर्णन 406.19  
उत्कीर्ण लेख 406.25  
ऐनज़ाइम  
ऐनज़ाइम 179.7 ⇨  
ऐनज़ाइम (अँ)  
ऐनज़ाइम 179.7  
ऐनडोर्समेंट (अँ)  
पृष्ठांकन 631.13

ऐन निशाने पर  
लक्ष्य पर 931.26  
ऐन मैन  
लक्ष्य पर 931.26  
समान 309.22  
ऐन मीक्रा  
उपयुक्त अवसर 70.3  
ऐन मीक्र पर  
समयानुसारता 61.7  
ऐनजी (अं)  
ऊर्जा 101.1  
गतिक बल 1050.1  
ऐनलर्मेट (अं)  
बातिलकरण 338.12  
ऐन वस्त पर  
उपयुक्त अवसर पर 70.16  
ऐनबलप (अं)  
लिफाफा 444.11  
ऐनसाइक्लोपीडिया (अं)  
ज्ञानकोश 446.10  
ऐन सामने  
ठीक सीधे 1098.33  
ऐनसिलरी (अं)  
अनुबन्गी 1010.6  
ऐनि  
इक्ष्वाकु 770.18  
ऐनिमल फेट (अं)  
जैव वसा 132.5  
ऐनिमेटर (अं)  
सचलकार 472.14  
ऐनिमेटिड (अं)  
अनुप्राणित 1046.31  
ऐनिमेशन (अं)  
अनुप्राणन 1046.6  
सचल चित्रण 472.13  
ऐनिमेशन चित्र  
सचल चित्र 472.12  
ऐनिमेशन फ़िल्म (अं)  
कार्डन फ़िल्म 472.7  
सचल चित्र 472.12  
ऐनिस्वीटाइज़ करना  
निस्संज्ञ करना 174.23  
ऐनिस्वीटाइज़ (अं)  
निस्संज्ञित 174.25  
ऐनुअल (अं)  
वार्षिक 71.22  
ऐनुइटी  
ऐनुइटी 643.29 ⇨  
ऐनुइटी (अं)  
ऐनुइटी 643.29  
ऐनेलीग बाब (अं)  
सुई घड़ी 50.20  
ऐनेस्वीटाइज़ेशन (दे. शल्य कर्म)  
घेतनाहरण 264.3  
ऐन्क्लोज़र (अं)  
अनुलग्नक 1010.4  
ऐन्वीय (अं)  
राजदूत 443.10

ऐपिलीग (अं)  
उपसंहार 466.18  
नाट्य अंत सूची 488.25  
ऐपिलोड (अं)  
धारावाही क्रिस्त 447.15  
ऐपोसल (अं)  
ईसा संदेश वाहक 791.12  
ऐपीइटर्मेट (अं)  
पद नियुक्ति 653.6  
ऐपीइटर्मेट लैटर (अं)  
नियुक्ति पत्र 653.7  
ऐप्रन  
ऐप्रन 585.26 ⇨  
ऐप्रन (अं)  
ऐप्रन 585.26  
मद्यग्र 471.15  
ऐप्रेंटिस (अं)  
प्रशिक्षु 321.47  
ऐप्रेंटिसशिप (अं)  
प्रशिक्षुता 321.21  
ऐप्लाइ करना  
पद आवेदन करना 653.23  
ऐप्लिकेशन (अं)  
पद आवेदन पत्र 653.5  
ऐप्लीकेशन (अं)  
पद आवेदन 653.3  
ऐप्लीकेशन देना  
पद आवेदन करना 653.23  
ऐफ़ (अं) (बीज रूप)  
फ़ेकडक़म (अ. अक्षर) 1035  
ऐफ़मेशन (अं)  
अशपथ घोषणा 339.22  
ऐम  
कुव्यसन 812.7  
दुर्गुण 314.4  
रत्न दोष 98.2  
विकलांगता 153.2  
ऐब निकालना  
दोष देखना 843.18  
ऐबी  
कामुक 237.14  
कुव्यसनी 812.16  
दुर्गुणी 314.8  
मदासक्त 211.14  
विकलाग 153.15  
व्यभिचारी 806.10  
ऐबैटर्मेट (अं)  
दुष्प्रेरण 861.9  
ऐबोलिशन करना  
निरस्त करना 338.24  
ऐब्रक्टर (अं)  
अपाहर्ता 862.10  
ऐब्रिक्टिड (अं)  
अपाहृत 862.9  
ऐब्रक्शन (अं)  
अपाहरण 862.4  
ऐब्र्टेशन (अं)  
प्रविरति 329.9

ऐबील्यूट जीरो (अं)  
परम शीतांक 103.17  
ऐम  
12 पाइंट 413.20  
ऐम (अं) (बीज रूप)  
मझोला साइज़ 961.12  
ऐमऐनसी (बीज नाम)  
अतरराष्ट्रीय कंपनी 692.6  
ऐमऐलए (अं)  
परिचद सदस्य 889.8  
ऐमपी (अं)  
सांसद 889.2  
ऐमजीसी (अं)  
आपात चिकित्सा 173.5  
संकट काल 909.7  
ऐमजीसी मैडिसिन (अं)  
आपात चिकित्सा 173.5  
ऐमल्बान (अं)  
घोल 1008.9  
ऐमिग्रेशन (अं)  
प्रयासन 618.4  
ऐमेचर (अं)  
शौक्रिया कलाकार 397.17  
ऐमेथिस्ट (अं)  
रत्न सूची 96.5  
ऐयाम  
काल 36.1  
ऐयार  
कुटिल 818.7  
तिलिस्मगर 474.14  
ऐयारी  
तिलिस्म 474.13  
ऐयारा  
कामुक 237.14  
यिलासी 363.20  
वेश्यागामी 807.16  
ऐयारी  
यिलास 363.6  
वेश्यागमन 807.1  
ऐर  
ऐर 959.39 ⇨  
ऐरा (अं)  
सघत्सर 42.1  
ऐरा गीरा [ऐरी गीरी]  
नगण्य 853.10  
सामान्य 311.3  
ऐराटा (अं)  
भूल सुधार पृष्ठ 447.9  
ऐरायण  
ऐरायत 780.5  
ऐरायत  
इंद्रधनुष 55.8  
ऐरायत 780.5 ⇨  
दिग्गज सूची 780.3  
नारंगी 190.22  
विद्युत मेघ 55.6  
सफ़ेद हाथी 127.40

ऐरावती  
मेघ विद्युत 55.9  
ऐरेटिड वाटर  
ऐरेटिड वाटर 208.8 ⇨  
ऐरेटिड वाटर (अं)  
ऐरेटिड वाटर 208.8  
ऐरोप्लेन (अं)  
विमान 1074.10  
ऐल (अं) (बीज रूप)  
बडा साइज़ 961.13  
ऐलपीजी (अं)  
रसोई गैस 110.2  
ऐलथिल  
कुबेर 779.4  
ऐलान  
अज्ञान 751.9  
ऐलाने आम  
मुनादी 441.11  
ऐलिवेटर  
ऐलिवेटर 613.12 ⇨  
ऐलिवेटर (अं)  
ऐलिवेटर 613.12  
ऐलीवेटर  
ऐलीवेटर 1062.6 ⇨  
ऐलीवेटर (अं)  
ऐलीवेटर 1062.6  
ऐलेय  
मगल ग्रह 7.7  
ऐलोपैथ  
ऐलोपैथ 172.4 ⇨  
ऐलोपैथिक चिकित्सक  
ऐलोपैथ 172.4  
ऐलोपैथिक चिकित्सा  
ऐलोपैथी 172.3  
ऐलोपैथी  
ऐलोपैथी 172.3 ⇨  
ऐलोपैथी (अं)  
ऐलोपैथी 172.3  
ऐलोय (अं)  
मिश्र धातु 93.3  
ऐकलाइज़र (अं)  
प्रतिअम्ल 87.9  
ऐकली (अं)  
क्षार 87.10  
ऐक्कोहलिज़म (अं)  
मद्यपता 209.26  
ऐल्गोरिदम (अं)  
ऐल्गोरिदम 955.20  
ऐल्गोरिदम  
ऐल्गोरिदम 955.20 ⇨  
ऐल्ला कण  
ऐल्ला कण 78.13 ⇨  
ऐल्ला पार्टिकल (अं)  
ऐल्ला कण 78.13  
ऐल्वम (अं)  
अलबन 415.20  
ऐल्यूमीनियम (अं)  
अल्यूमीनम 94.1

## ऐवरडिपोइज (अँ)

**ऐबरडिपोइज (अँ)**  
माल भार पद्धति 962.61  
**ऐबरेज (अँ)**  
औसत राशि 947 11  
**ऐबरेस्ट शिखर**  
भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1  
**ऐबार्ड (अँ)**  
अलकार 854 13  
**ऐबेन्नु (अँ)**  
सङ्क 1063 33  
**ऐश**  
दैनिक 772.40  
विलास 363 6  
शिव विषयक 767 2  
**ऐशगाह**  
ऐश्वर्य भवन 602 12  
श्रोता गृह 601 3  
**ऐशट्रे (अँ)**  
राखदानी 218 22  
**ऐशान**  
शिव विषयक 757.2  
**ऐशिक**  
शिव विषयक 767.2  
**ऐश्य**  
शक्तिशालिता 487.2  
**ऐश्वर**  
ईश्वरीय 764 35  
शासकीय 890 20  
शिव विषयक 767 2  
**ऐश्वर्य**  
आधिपत्य 899.8  
ईश्वरीय 764 35  
ईश्वरीय लीला 764 2  
प्रतिष्ठा 849 2  
विलास 363 6  
वैभवं 226 5  
शक्तिशालिता 487 2  
**ऐश्वर्य (अणिमा आदि)**  
ईश्वर. विभूति सूची 764.4  
**ऐश्वर्यपूर्ण**  
धनाढ्योचित 826 17  
राजा योग्य 882.35  
**ऐश्वर्य भवन**  
ऐश्वर्य भवन 802.12 ⇨  
श्रोता गृह 601.3  
**ऐश्वर्य भोग**  
विलास 363 6  
**ऐश्वर्य भोगी**  
विलासी 363.20  
**ऐश्वर्यवाद**  
भोगवाद 760 21  
**ऐश्वर्यशाली**  
धन वैभवशाली 226 16  
**ऐश्वर्य स्थल**  
सुख धाम 390 4  
**ऐस बँड (अँ)**  
सर्पिल मोड़ 974 13

**ऐसा**  
ऐसा 317.30 ⇨  
ऐसा [ऐसी]  
ऐसा 317 30  
ऐसा बैसा [ऐसी बैसी]  
नगण्य 853 10  
ऐसा ही हो  
एवमस्तु 710 30  
ऐसा हुआ था  
सत्यतः 820 25  
ऐसा है...तो  
कारण कार्य. उक्ति सूची 507.20  
**ऐसिड (अँ)**  
अम्ल 87.8  
**ऐसिडिटी (अँ)**  
अम्लाधिक्य 163.27  
**ऐसे**  
ऐसे 514.23 ⇨  
परिस्थिति में 69 14  
सादृश्य उक्ति सूची 309.26  
**ऐसे ही**  
अप्रयत्नतः 490.15  
प्रयोजनहीनता 509 5  
**ऐसीडिंग (अँ)**  
आरोह क्रमिक 991.22  
**ऐसीडिंग आर्बर (अँ)**  
आरोह क्रम 991 3  
**ऐस्कलेटर**  
ऐस्कलेटर 1062.9 ⇨  
**ऐस्कलेटर (अँ)**  
ऐस्कलेटर 1062.9  
**ऐस्टेड (अँ)**  
राज्य 881.5  
**ऐस्ट्रानोमिकल (अँ)**  
अंतरिक्ष यात्रीय 1087 38  
**ऐस्ट्रोनॉट (अँ)**  
अंतरिक्ष यात्री 1087 24  
**ऐस्रोसो मशीन**  
ऐस्रोसो मशीन 682.23 ⇨  
**ऐस्प्लेनेड**  
ठंडी सङ्क 1063.21  
**ऐस्प्लेनेड (अँ)**  
परिसर मार्ग 1063 22  
**ऐस्पेस्टोस शीट**  
ऐस्पेस्टोस शीट 990.22 ⇨  
**ऐस्पेस्टोस शीट (अँ)**  
ऐस्पेस्टोस शीट 990.22  
**ऐहिक**  
इहलीकिक 258.13

## ओ

**ओंकार**  
एकः उपमान सूची 948 18  
**ओंकार**  
एक ओंकार 407.8  
ओम् 741 19  
शुभ आरंभ. उक्ति सूची 521.9

**ओंकार नाथ**  
ज्योतिर्लिंग सूची 746.19  
**ओंकाररूप**  
गणेश 773.22  
**ओंकारेश्वर**  
शिवलिंग सूची 746.17  
**ओंगन**  
ओइलिंग तेल 538.8  
**ओंगाई**  
ओइलिंग 538.5  
**ओठ**  
ओष्ठ 143.2  
बरतन. मुँह 680.22  
**ओठ चबाना**  
कुद्द होना 373.15  
**ओठ पर लाना**  
कहना 430.11  
**ओंठा**  
संघ 864.16  
**ओ-**  
और 945.10  
**ओउम्**  
ओम् 741.19  
**ओक**  
अंजलि पात्र 150 3  
नक्षत्र योग 261.33  
**ओकना**  
वमन करना 215 29  
**ओकाई**  
मिथलाहट 215.27  
**ओ.के. (अँ)**  
हाँ 337.29  
**ओके (अँ)**  
हाँ 337.29  
**ओखल**  
ओखली 560.10  
**ओखली**  
ओखली 560.10 ⇨  
**ओखली में शिर देना**  
संकट लेना 909.12  
**ओखा [ओखी]**  
कठिन 519 18  
खोटा [खोटी] 98.13  
**ओगल**  
परती 552.6  
**ओगाई**  
ओइलिंग 538.5  
**ओगार**  
उत्थीय 666.3  
कूप स्वच्छीकरण 19.21  
**ओगारना**  
छपकना 668.17  
**ओष**  
ठेर 686.6  
धारा 21.14  
पूर्ण अंश 940.6  
प्रवाह 1041 1  
बाढ़ 22.1

**ओछा**  
नगण्य 853.10  
**ओछा [ओछी]**  
अधम 840.4  
ऊँचा [परिधान] 583.24  
खोटा [खोटी] 98.13  
दुराराय 818.9  
**ओछापन**  
अधमता 840.1  
**ओज**  
अंग दीप्ति 157.8  
अंतरचंद्रता 285.34  
ऊर्जा 101.1  
ताप 103.1  
तेजस्विता 839.5  
दीप्ति 287.16  
प्राण तत्त्व 245 1  
रत्न आम 98.3  
विषम सख्यक 949.30  
वीर्य 130.10  
शक्ति 487.1  
शारीरिक बल 160.2  
सार 84.16  
**ओज आना**  
स्फूर्ति आना 491.6  
**ओजपूर्ण**  
तेजस्वी 839.9  
स्फूर्त 491.13  
**ओजस्थिता**  
तेजस्विता 839.5  
शक्तिशालिता 487.2  
स्फूर्ति 491.2  
**ओजस्वी**  
तेजस्वी 839.9  
दीप्तांग 157.11  
शक्तिशाली 487.20  
स्फूर्त 491.13  
**ओजस्वी [ओजस्विनी]**  
तेजस्वी 839.9  
**ओजहीन**  
अतेजस्वी 839.10  
स्फूर्तिहीन 492.14  
**ओजहीनता**  
अतेजस्विता 839.6  
दुःखग्रस्तता 391.2  
**ओजोन**  
ओजोन 86.4 ⇨  
**ओजोन (अँ)**  
ओजोन 86.4  
शुद्ध वायु 85.3  
**ओझ**  
अंत्र 152.2  
**ओझरी**  
उदर 148.8  
**ओझल**  
अदूरयमान 282.20  
असमक्ष 1022.6  
विलुप्त 824.24

ओझा	राग जाति सूची 1 457.14	ओपना	उज्ज्वल करना 218 32	ओरिजिनल स्क्रिप्ट (अँ)	मूल लिपि 412 28
अनाड़ी विकित्सक 171 14	ओखव राग	माजित करना 218 25	ओपनिंग शो (अँ)	ओरेंज लाइट (अँ)	नारंगी बत्ती 1067 16
ओझा 759 11 ⇨	ओडव राग 457 15 ⇨	ओपनिंग शो (अँ)	प्रीमियर शो 468.6	ओल	गोदी 721 7
टोना कर्ता 759.2	ओका	ओपल	ओला 54 15	जमानत 869 2	जर्नीकद 189 21
प्रेत साधक 759 13,	तौल बरतनः भार 962 26	ओपल (अँ)	उपल 96 8	प्रतिवात स्थान 1073 24	
ओझाई	ओड	ओपियम (अँ)	अफ्रीम 212 2	ओलथा	सिचन फुहारा 1032 12
भूत, निवारण 759 8	निकट आनीत 1053 12	ओबरी	ओपल (अँ)	ओलती	छप्पर किनारा 615 2
ओझा: उपकरण सूची	ओइन	तंग कोठरी 614 4	उपल 96 8	ओला	ओला 54.15 ⇨
ओझा उपकरण सूची 759 12 ⇨	उदायन 593 3	ओम	ओपियम (अँ)	प्रतिवात स्थान 1073 24	
ओझा कर्म	उत्तरीय 585 7	ओम 764.16 ⇨	अफ्रीम 212 2	ओला वर्षा	ओला वर्षा 54 16 ⇨
भूत निवारण 759 8	ओइन 592.2 ⇨	ओम 764 19	ओपल (अँ)	ओला वृष्टि	ओला वर्षा 54 16
ओट	ओइना	ओम (दे.)	ओपनी बस (अँ)	ओलिपस पर्यत	ग्रीक स्वर्ग 259 4
अदृश्य स्थान 33 2	उदायन 593.3	ओम नमः सिद्धम्	बस 1071 60	ओलिपिक्स (अँ)	विश्व खेल प्रतियोगिता 475 16
आड 605 1	उत्तरीय 585 7	अक्षरारंभ 321 4	ओम्	ओली	झोली 673.17
प्रतिवात स्थान 1073.24	ओइना 592.9 ⇨	ओमनी बस (अँ)	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11 ⇨
प्रतिवातित्र 85.31	दायित्व लेना 895 6	बस 1071 60	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
शरण 910 4	पहनना 589 22	ओम्	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
शरण स्थल 910 5	ओइनी	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओट (अँ)	ओइनी 585 9 ⇨	ओम् 764 16	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
जई 187 13	ओका [ओवी]	ओम नमः सिद्धम्	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटक	ओका [ओवी] 592.15 ⇨	अक्षरारंभ 321 4	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
अदृश्य स्थान 33 2	ओत	ओमनी बस (अँ)	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
आड 605 1	ताना 576 8	बस 1071 60	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
प्रतिवातित्र 85.31	बुना [बुनी] 576 27	ओम्	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओट करना	मित व्यय 644 2	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
आड करना 605 15	ओतप्रोत	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटना	गहन प्रभावित 511 15	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
अनुलाप करना 435.21	तल्लीन 331 14	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटना 567.11 ⇨	तानाबाना 576 7	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
दायित्व लेना 895.6	नाने बाने की तरह बुना 576.29	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटनी	व्यापक 981.12	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटनी 562.1 ⇨	संसिक्त 1008 29	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओट में	ओतप्रोत करना	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
आड में 605 17	गहन प्रभाव छोड़ना 511.12	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओट में जाना	व्याप्त होना 981.8	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
प्रच्छन्न होना 824.18	ओतप्रोतता	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओट में होना	तल्लीनता 331.6	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
छद्म आवरण में होना 824 19	ताना बाना: बुनावट 576 12	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटयुक्त	संसिक्त मिश्रण 1008 4	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
आडदार 805.16	ओतप्रोत होना	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटा	तल्लीन होना 331 9	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटनी 562.1	ओथ (अँ)	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटाई कर्मी 567 2	शपथ 339.20	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
परदा दीवार 607.5	ओदा [ओवी]	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटाई	वर्षद 54.23	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटाई 567.1 ⇨	ओनचन	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटाई करना	अदवान 570.10	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटना 587.11	ओनामासी	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटाई कर्मी	अक्षरारंभ 321.4	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटाई कर्मी 567.2 ⇨	ओप	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटी	दीप्ति 287.16	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटनी 582.1	पालिश 290.14	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओटी (डाक्टरी बोलचाल) (अँ)	ओपबी	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
आपरेशन 174.3	अंगरक्षक 908.21	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओइना	कवचधारी 921.15	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
निवारण करना 920 14	ओपबी छाना	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओखव	सेना चौकी 933.9	ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11
ओखव राग 457.15		ओम् 741 19 ⇨	ओम् 741 19 ⇨	ओल्ड टैस्टामेंट (अँ)	ओल्ड टैस्टामेंट 739.11

## ओवल (अं)

### ओवल (अं)

अडवृत्त 972 2  
अडाकार 976 19  
अडाकार पिड 976 7  
दोड़ मैदान 1063 27

### ओषान (अं)

महा समुद्र 24 4

### ओषजन

ओक्सीजन 86 3

### ओषण

चरपरापन 278 1

### ओषध

जड़ी बूटी 176 2

### ओषधि

वनस्पति 111 1

### ओषधिगर्भ

सूर्य 8 1

### ओषधिधर

विकित्सक 171 13

### ओषधि भार माप

ओषधिक भार माप 962 60

### ओषधीश

कपूर 274 14

घदमा 8 2

### ओषाति

ओक्सीजन 86 3

### ओष्ठ

उच्चारण स्थान सूची 411 10

ओष्ठ 143 2 ⇨

### ओष्ठः कोर

ओष्ठ कोर 143 4 ⇨

### ओष्ठ चर्चा

ओष्ठ रजन 225 23

### ओष्ठ रंजन

ओष्ठ रंजन 225 23 ⇨

सोलह सिंगार सूची 222 3

### ओष्ठ बाध

शुषिर बाध 461 20

### ओष्ठीय

ओष्ठीय 143.12 ⇨

### ओष्ठ्य वर्ण

उच्चारण स्थानानुसार वर्ण सूची 411 11

### ओष्ठ्य

ओष्ठीय 143 12

### ओस

ओस 90 11 ⇨

तुषार पात 90 9

### ओस कण

ओस कण 90 12 ⇨

### ओस बूद

ओस कण 90 12

### ओसांक

ओस 90 11

### ओसाई

ओसाई 548.22 ⇨

### ओसाईः उकता अन्न

ओसाई उकता अन्न 548 23 ⇨

### ओसाईः चादर

ओसाई चादर 548 24 ⇨

### ओसाईः चादर

ओसाई चादर 548 24

### ओसाईः स्थान

ओसाई स्थान 548.25 ⇨

### ओसाना

ओसाना 548 41 ⇨

### ओसारा

अनाज गोदाम 670 18

ओसाई स्थान 548 25

बरामदा 615 6

शूड 670 16

### ओह

आह 386 4

### ओहदा

पदवी 652 1

### ओहदेदार

पदाधिकारी 652.4

### ओहदेदारी

पदाधिकारिता 652 3

### ओहना

ओसाना 548 41

### ओहार

पालकी परदा 605 14

### ओ हो

आनंदः ध्वनि सूची 382 25

## ओ

### ऑठ

ऑठ 1000 11

किनारा 1000 10

### ओधना

अधोमुख होना 1023 8

### ओधा [ओधी]

अधोमुख 1023 14

पट 486 25

सोदरशायी 1027 17

### ओधा घड़ा

आकाश 2 1

### ओधापन

अधोमुखता 1023 4

### ओधा लेटना

पेट के बल सोना 1027 10

### ओधा होना

अधोमुख होना 1023 8

### ओधी स्थिति

अधोमुखता 1023 4

### ओधे

अधोमुखता 1023 18

### ओस

ओस 962 29 ⇨

### ओस (अं)

द्रीय ओस 962 38

### ओ-

ओर 945 10

### ओइल (अं)

खनिज तेल 110 16

### ओइलिंग

ओइलिंग 538.5 ⇨

### ओइलिंग (अं)

ओइलिंग 538.5

### ओइलिंग तेल

ओइलिंग तेल 538.6 ⇨

### ओक्रात

काल 36 1

क्षमता 487 7

प्रतिष्ठा 849 2

### ओक्टेंट (अं)

घक्र आठवाँ भाग 960 5

### ओक्टेंगन (अं)

अष्टभुज 969 11

### ओक्टोपस

ओक्टोपस 124 4 ⇨

### ओक्टोपस (अं)

ओक्टोपस 124 4

### ओक्सीजन

ओक्सीजन 86 3 ⇨

### ओक्सीजन (अं)

ओक्सीजन 86 3

### ओखा

गो चर्म 582.9

### ओगा

अकुरा 555 20

### ओगी

आखेट गड़दा 252 24

चाबुक 555 23

### ओगुन

दुर्गुण 314 4

### ओघ

विलक्षण 312 16

### ओघट

अगम्य 519 25

### ओघड

अलमस्त 382 23

कुडूल 155 5

शिव 767 1

### ओघड दानी

सहज दयालु 834 13

### ओघर

घक्र 974 16

### ओघक

अकस्मात् 69 13

### ओघट

अकस्मात् 69 13

### ओधित्य

काव्य गुण सूची 453 4

संगतता 438 1

सामंजस्य 702 1

### ओधित्यवाद

हिंदी काव्य सिद्धांत सूची 453.12

### ओधित्य स्थापन

विवेकीकरण 325 15

### ओधित्यःशून्यता

असंगतता 439.1

### ओप्रा

उपकरण 558.7

### ओप्रा वीला

किट बैग 673.6

### ओटन

ओटन 91.4 ⇨

### ओटना

अति क्रुद्ध होना 373.16

ओटाई कलछा 681.2

### ओटनी

ओटाई कलछा 681.2

### ओटाई

ओटन 91 4

### ओटाई कलछा

ओटाई कलछा 681 2 ⇨

### ओटाना

तपाना 104 16

### ओटाव

ओटन 91 4

### ओटोनमी (अं)

स्याधीनता 900 1

### ओड (अं)

विषम सख्यक 949 30

### ओड नंबर (अं)

विषम संख्या 949 9

### ओडव

ओडव राग 457.15

### ओडिएंस

श्रोता 399 6

### ओडिएंस (अं)

कला उपभोक्ता गण 399 3

पाठक 399 5

### ओडिट (अं)

लेखा परीक्षा 632 33

### ओडिटर (अं)

लेखा परीक्षक 632.34

### ओडिटिंग करना

लेखा परीक्षा करना 632.38

### ओडिटिड अकाउंट (अं)

परीक्षित लेखा 632 3

### ओडिटोरियम (अं)

दर्शक दीर्घा 471 4

नाट्यशाला 471 12

प्रेक्षगार 471 1

सभागार 695 1

सिनेमा घर 471.11

### ओडियो (अं)

श्रव्य 397.35

### ओडियो आर्ट्स (अं)

श्रव्य कला 397.9

### ओडी

धन 146.10

स्त्री स्तन 146 7

### ओद्युगिक

जल यात्री 1087.16

<b>औडर</b>	<b>औपचारिकताहीनता</b>	<b>औरत मर्द</b>	<b>औयल</b>
सहज तुष्ट 374 21	अनीपचारिकता 185 3	विपरीतता उपमान सूची 310 13	पहला [पहली] 948 85
<b>औडर दानी</b>	<b>औपचारिक वेश</b>	स्त्री पुरुष 236 1	<b>औरीर</b>
दानवीर 641 28	<i>औपचारिक वेश 589 12 ⇨</i>	<b>और तरह</b>	गोंडर घास मूल 112 15
शिय 767 1	<b>औपचारिक शैली</b>	अन्यथा 514 25	<b>औषध</b>
सहज दयालु 834 13	शिष्टता 733 7	वैकल्पिक विधित 516 7	<i>औषध 176 1 ⇨</i>
<b>औतारी</b>	<b>औपनिवेशिक</b>	<b>और नहीं</b>	जड़ी बूटी 111 13
अवतारीय 769 41	उपनिवेशीय 881 34	अनेतर 945 6	<b>औषध अनुपान</b>
<b>औत्तरेय</b>	<b>औपनिवेशिकता</b>	इत्यल 941 11	<i>औषध अनुपान 176 7 ⇨</i>
परीक्षित 771 70	उपनिवेश वाद 884 13	<b>और भी</b>	<b>औषध टिकिया</b>
<b>औतानपादि</b>	<b>औपनिषद</b>	<i>और भी 945 11 ⇨</i>	वटी 176 25
उत्तर ध्रुव तारा 3 12	उपनिषदीय 740 60	<b>औरभ्र</b>	<b>औषध दुकान</b>
<b>औत्स</b>	निर्गुण ब्रह्म 764 28	ऊनी वस्त्र 579 9	<i>औषध दुकान 175.9 ⇨</i>
उत्क्रोतज 21 36	<b>औपनिषदिक</b>	<b>औरभ्रिक</b>	<b>औषध निर्देशन</b>
<b>औथेटिकेटिड (अँ)</b>	उपनिषदीय 740 60	भेड़ बकरी पालक 555 2	<i>औषध निर्देशन 171 9 ⇨</i>
अधिममाणित 327 13	<b>औपम्य</b>	<b>और लोग</b>	<b>औषध निर्देश पत्र</b>
<b>औदक</b>	उपमा 309 7	परजन 725 3	औषध पत्र 171 10
जलस्रोतयुक्त 21 34	<b>औपरेटिंग स्पीड</b>	<b>औरस</b>	<b>औषध पत्र</b>
जलीय 88 22	उड़ान गति 1081 32	<i>औरस 716 15 ⇨</i>	<i>औषध पत्र 171 10 ⇨</i>
<b>औदर</b>	<b>औपहारिक</b>	वक्षीय 146 12	<b>औषध पान चोंगा</b>
उदरीय 148 14	उपहारीय 640 12	<b>औरसता</b>	नलया 684 3
<b>औदरिक</b>	<b>औपेरा</b>	<i>औरसता 716 2 ⇨</i>	<b>औषध मात्रा</b>
अत्याहारी 182 15	<i>औपेरा 463 10 ⇨</i>	<b>और से</b>	<i>औषध मात्रा 176 6 ⇨</i>
उदरीय 148 14	<b>औपेरा (अँ)</b>	अतिरिक्त 945 7	<b>औषध वनस्पति</b>
<b>औदयं</b>	<i>औपेरा 463 10</i>	<b>औरस्य</b>	जड़ी बूटी 111 13
उदरीय 148 14	<b>औपेरा हाउस (अँ)</b>	औरस 716 15	<b>औषध विक्रेता</b>
<b>औदार्य</b>	नाट्यशाला 471 12	<b>और्कस्ट्रा (अँ)</b>	<i>औषध विक्रेता 175 8 ⇨</i>
काव्य गुण सूची 453 4	<b>औफ़र करना</b>	वाद्य समूह 461 7	<b>औषध वितरक</b>
<b>औदिका: (प्र)</b>	मूल्य निवेदन करना 664 21	<b>और्गन (अँ)</b>	<i>औषध वितरक 175 6 ⇨</i>
जलघर जीव 121 6	<b>औक्ज़र्वर (अँ)</b>	अरगान बाजा 461 21	<b>औषधार्ग</b>
<b>औदुंबर</b>	प्रेक्षक 284 26	<b>और्गनिक (अँ)</b>	औषध अनुपान 176 7
गूलर 190 16	<b>औक्ज़र्वेशन (अँ)</b>	चेन्न 121 16	<b>औषधार्गार</b>
तोंबा 94 8	प्रेक्षण 284 25	<b>और्ज</b>	औषध दुकान 175 9
<b>औद्भिद्</b>	<b>औक्ज़ोप्टिक् टाइप क्वेश्चन (अँ)</b>	<i>और्ज 101 13 ⇨</i>	<b>औषधालय</b>
उद्भिज्ज 111 7	विषयनिष्ठ प्रश्न 333 6	<b>और्जित्य</b>	औषध दुकान 175 9
<b>औद्यम</b>	<b>औक्ज़ेरान (अँ)</b>	काव्य गुण सूची 453 4	<i>औषधालय 175 2 ⇨</i>
उद्यम विषयक 557 14	ख़स्त 353 11	<b>और्जन्स ङिपो (अँ)</b>	<b>और्धधि</b>
<b>औद्यमिक</b>	<b>औम् (शुद्धों के लिए)</b>	शस्त्र निर्माण शाला 929 2	'एक फसली वनस्पति 111 4
उद्यम विषयक 557 14	औम् 741 19	<b>और्डर देना</b>	जड़ी बूटी 111 13
<b>औद्योगिक</b>	<b>और</b>	माल मैंगाना 660 16	जड़ी बूटी 176 2
उद्योग विषयक 557 15	अतिरिक्त 945 4	<b>और्गिक</b>	<b>और्धधिक चूर्ण</b>
<b>औद्योगिकीकरण</b>	असदृश 310 6	ऊनी 568 16	चूरन 176 16
उद्योगीकरण 557 4	इतर 945.5	<b>और्ध</b>	<b>और्धधिक भार माप</b>
<b>औधस</b>	<i>और 945.10 ⇨</i>	बड़या दीप्ति 287 18	<i>और्धधिक भार माप 962 60 ⇨</i>
स्तनीय 146 14	परजन 725 3	<b>और्धरोय</b>	<b>और्धधिक लयण</b>
<b>औने चीने</b>	विपरीत 310 7	यसिष्ठ 789 18	काला नमक 279 6
अल्पमूल्यत 664.39	<b>और कभी</b>	<b>औलाद</b>	<b>और्धधी</b>
<b>औपचारिक</b>	भिन्न काल में 60 15	संतान 718 1	जड़ी बूटी 176 2
औपचारिकतापूर्ण 184 10	<b>और कहीं</b>	<b>औला दौला [औली दौली]</b>	<b>और्धिक</b>
<b>औपचारिकता:</b>	अन्यत्र 30 9	अलमस्त 382 23	तेनी [तेलिन] 83 9
औपचारिकता पूर्वक 184 12	<b>और क्या बस..</b>	<b>औलान</b>	<b>औष</b>
<b>औपचारिकता</b>	सारांश उक्ति सूची 449 34	पशु पानी का हौज 18 16	ओष्ठीय 143 12
<i>औपचारिकता 184.3 ⇨</i>	<b>औरगंजा</b>	<b>औलिया</b>	<b>औष्ण</b>
<b>औपचारिकतापूर्ण</b>	अरगंजा 580.3	इसलामी साधु 790 23	ताप 103 1
<i>औपचारिकतापूर्ण 184.10 ⇨</i>	<b>औरत</b>	मिशुक 642.5	<b>औसत</b>
<b>औपचारिकता पूर्वक</b>	पत्नी 803.6	मुसलमान सिद्ध 790 32	औसत राशि 947 11
<i>औपचारिकता पूर्वक 184.12 ⇨</i>	स्त्री 236 3	साधु संन्यासी 790 1	औसत राशीय 947 25
		सिद्ध साधु 790 30	मध्यम 978 6

## औसत आदमी

सामान्य 311 3

**औसत आदमी**  
साधारण जन 728 12

**औसत तीर पर**  
औसतन 947 33

**औसतन**  
औसतन 947 33 ⇨

**औसत राशि**  
औसत राशि 947 11 ⇨

**औसत राशीय**  
औसत राशीय 947 25 ⇨

**औसत साइज़**  
औसत साइज़ 961 6 ⇨

**औसर**  
अवसर 70 1

**औसान**  
तत्काल बुद्धि 301 2  
साहस 394 1

**औसान घूटना**  
साहस घूटना 395 17

**औसिलोग्राफ़ (अँ)**  
प्रदोल मापी 958 37

**औस्सीलेटर (अँ)**  
दोस्त्रि 1037 9

## क

**कक**  
क्षत्रिय 731 19  
**कक (अज्ञातवासः नाम)**  
युधिष्ठिर 771 80

**ककड़**  
इटोरा 938 34  
कंकड़ 938 35 ⇨  
छेंटन 526 10  
रोड़ा 938 48  
रोड़ी 938 49

**ककड़ पत्थर**  
कूड़ा करकट 214 4

**ककड़िया**  
ककड़ी 938 36

**ककड़ी**  
इटोरा 938 34  
ककड़ी 938 36 ⇨  
किरकिरी 938 7  
धातु पिंड सूची 976 12  
बजरी 938 44  
रोड़ी 938 49

**ककड़ीला [ककड़ीली]**  
ककड़ीला [ककड़ीली] 987 7 ⇨  
किरकिरी [किरकिरी] 197 28

**ककड़ीः सड़क**  
कुटी सड़क 1063 42

**ककण**  
कगन 228 5  
कंगना 802 11  
कूड़ा 802 12

**कंकर**  
ककड़ 938 35

**कंकरिया**  
ककड़ी 938 36

**कंकरी**  
ककड़ी 938 36

**कंकरोट**  
ककरीट 938 37 ⇨

**कंकाल**  
अस्थि पजर 133 5  
मासहीन 132 19

**कंकाल माली**  
शिव 767 1

**कंकालय**  
शरीर 139 1

**कंकाल शेष**  
अति क्षीणकाय 159 14

**कंकालिनी**  
ककशा 838 11  
काली 776 3

**कंकेल्ल**  
अशोक 13 4

**कंकोल**  
शीतल चीनी 281 31

**कंकोलक**  
शीतल चीनी 281 31

**कंखोरी**  
बगल गड़दा 147 6

**कंगन**  
कगन 228 5 ⇨  
कंगना 802 11

**कंगन**  
कंगना खुलाई 800 5

**कंगना**  
कगन 228 5  
कंगना 802 11 ⇨  
कंगना खुलाई 800 5

**कंगना खुलाई**  
कंगना खुलाई 800 5 ⇨

**कंगना खेल**  
कंगना खुलाई 800 5

**कंगनी**  
उच्च मार्ग 1065 3  
कंगनी 1000 7 ⇨  
कंगनी 611 25 ⇨

**कंगला [कंगली]**  
कगाल 627 21

**कंगलापन**  
कगाली 627 7

**कंगारू**  
कंगारू 127 83 ⇨

**कंगाल**  
कगाल 627 21 ⇨

**कंगाल (दे.)**  
दियालिया 646 19

**कंगाल होना**  
कगाल होना 627 12 ⇨

**कंगाली**  
कगाली 627 7 ⇨

**कंगाली (दे.)**  
आहार अभाव 627 3

**कंगुनी**  
अनाज सूची 187 6

**कंगुरा**  
उच्चता उपमान सूची 982 13  
कगुरा 611 3 ⇨  
कलश 745 43

**कंघा**  
कघा 223 7 ⇨  
ककार सूची 407 10

**कंघी**  
कघी 223 8 ⇨  
केश सवरण 223 4  
ताना कघी 562 17

**कंघी घोटी**  
केश सवरण 223 4  
शृंगार 222 1

**कंघन**  
स्वर्ण 95 4

**कंघनजंघा**  
भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1

**कंघना**  
चपा 14 15

**कंघा**  
गोली 479 1

**कंधिका**  
कमघी 923 1

**कंधुक**  
अंगरखा 585 28  
कवच 921 2  
केघुली 134 17  
घोली 585 38  
तसमा 571 30

**कंधुकित**  
कवचधारी 921 15

**कंधुकी**  
अतपुर पहरदार 908 11  
कंधुकी 467 14 ⇨  
कवचधारी 921 15  
कामुक 237 14  
केघुली 134 17  
घोली 585 38  
द्वार पहरदार 908 13  
सर्प 123 10

**कंधुली**  
केघुली 134 17

**कंजपान (अँ)**  
उपभोग 524 1

**कंज**  
ब्रह्मा 766 1

**कंजई**  
खाकी 289 42

**कंजपान (अँ)**  
खपत 644 6

**कंजर**  
मोर 126 68  
सन्ध्यासी 790 11  
हाथी 127 38

**कंजा [कंजी]**  
खाकी 289 42

**कंजार**  
ब्रह्मा 766 1

**कंजियाना**  
प्लान होना 120 7

**कंजूस**  
कृपण 639 26

**कंजूसी**  
कृपणता 639 9  
दानहीनता 639 10

**कंज्युमर (अँ)**  
खपत कर्ता 644 26

**कंज्युमर गुड्स (अँ)**  
उपभोग्य वस्तु 666 2

**कंज्युमर्स मार्केट (अँ)**  
माल बहुतायत 656 3

**कंज्युमेबल्स (अँ)**  
उपभोग्य वस्तु 666 2

**कंट**  
कटक 115 4

**कंटक**  
कंटक 115 4 ⇨  
गॉस 938 12  
मत्स्य अस्थि 133 4  
लौह कटक 1016 34  
शत्रु 706 2  
साही रोम 135 5

**कंटकः गड़ा खंड**  
गॉस 938 12

**कंटकन**  
कटकन 117 9 ⇨

**कंटकयुक्त**  
कंटकयुक्त 115 15 ⇨

**कंटक रोम**  
साही रोम 135 5

**कंटक लोम**  
साही रोम 135 5

**कंटक वृक्ष**  
बभूल 13 15

**कंटक शय्या**  
कंटक शय्या 594 2 ⇨

**कंटकहीन**  
कंटकहीन 115 16 ⇨

**कंटकाकीर्ण**  
कंटकयुक्त 115 15

**कंटकाशन**  
कंट 127 27

**कंटकित**  
कंटकयुक्त 115 15

**कंटकित होना**  
कंटकित होना 117 17 ⇨

**कंटकी**  
कंटकयुक्त 115 15



<b>कंटकीय</b>	<b>कंठधर</b>	<b>कंठाग्र</b>	<b>कंडोल</b>
युभनशील 270 18	कंठधर 356.24 ⇨	रटा [रटी] 356 23	जालीदार अलमारी 671 8
<b>कंटफल</b>	<b>कंठ नली</b>	<b>कंठाग्रीकरण</b>	बॉस बेत टोकरा 677 4
कटहल 189 9	श्वास वाहिका 145 15	रटत 356 4	<b>कंडोलक</b>
<b>कंटर</b>	<b>कंठ परिधान</b>	<b>कंठाल</b>	टोकरा 677 1
सुराहीनुमा बोटल 678 6	कंठ परिधान 585 1 ⇨	ऊँट 127 27	<b>कंठ</b>
<b>कंटाइन</b>	<b>कंठ पिधान</b>	झोला 673 16	पति 803 5
भूतनी 786.2	अपिकठिका 145 7	थैला 673 1	प्रसन्न 381 7
<b>कंटालु</b>	<b>कंठबंध</b>	नीका 1072 2	प्रेमपात्र 369 4
बबूल 13 15	नैकटाई 585 2	पटेला 563 5	प्रेमी 368 2
<b>कंटिका</b>	<b>कंठ मणि</b>	मथन पात्र 554 13	<b>कंता</b>
अनाज. बाल 113 8	कंठ मणि 145 6 ⇨	<b>कंठालिंगन</b>	पति 803 5
<b>कंटिनेंट (अँ)</b>	<b>कंठमाला</b>	आलिंगन 237 8	प्रेमपात्र 369 4
महाद्वीप 26 4	कठहार 228 26	<b>कंठावरोध</b>	<b>कंधा</b>
<b>कंटिया</b>	<b>कंठ रोधन</b>	भर्राहट 299 15	गुदड़ी 593 46
मत्स्य आखेट काँटा 252 17	वाचा रोधन 429 7	वाचारुद्धता 429 8	जीर्ण परिधान 583 4
लग्गा 563 6	<b>कंठ लंगोट (ख्यंग्य)</b>	<b>कंठावरोधन</b>	शेगलीदार परिधान 583 5
हरी इमली 277 9	नैकटाई 585 2	वाचा रोधन 429 7	राबिरो दुकड़ो वाली रजाई 593 16
<b>कंटियाना</b>	<b>कंठ वाघ</b>	<b>कंठिका</b>	साधु वेश 589 10
रोमापित होना 382 14	शुषिर वाघ 461 20	एक लड़ी माला 228 40	<b>कंधाधारी</b>
<b>कंटी</b>	<b>कंठ वाघ संगीत</b>	<b>कंठिद</b>	योगी 756 3
मटर 189 31	संगीत 457 1	गलप्रथि 132 10	साधु 790 16
<b>कंटीनेटल शैलक (अँ)</b>	<b>कंठ शालुक</b>	<b>कंठीय</b>	<b>कंधी</b>
महाद्वीपीय कगार 25 10	गलफू 145 12	कंठीय 145 18 ⇨	साधु 790 16
<b>कंटीला [कंटीली]</b>	<b>कंठ संकुचन</b>	<b>कंठीरय</b>	<b>कंद</b>
कंटकयुक्त 115 15	समृत उच्चारण 411 6	कबूतर 126 16	कंद 111 10 ⇨
युभनशील 270 18	<b>कंठ संगीत</b>	मस्त हाथी 127 41	कंदमूल 189 3
<b>कंटेट्स (अँ)</b>	कंठ संगीत 457 5 ⇨	स्पष्ट कथन 430 3	जर्मीकंद 189 21
विषय सूची 447 7	गायन 460 16	<b>कंतुआ</b>	प्याज़ 281 24
<b>कंटैक्स्ट (अँ)</b>	<b>कंठ साधना</b>	कंठ मणि 145 6	<b>कंद</b>
संदर्भ 437.3	स्वर साधन 460 9	<b>कंठेकाल</b>	कंद गिसरी 280 19
<b>कंट्री (अँ)</b>	<b>कंठरथ</b>	शिव 767 1	<b>कंद</b>
देश 34.10	रटा [रटी] 356 23	<b>कंठाच्छ वर्ण</b>	मूल 112 10
<b>कंट्रैक्ट (अँ)</b>	<b>कंठस्थ करना</b>	उच्चारण स्थानानुसार वर्ण सूची 411 11	<b>कंद ग्रंथी</b>
संधिदा 339 3	रटना 356 14	<b>कंठाघ वर्ण</b>	शकरकदी 189 34
<b>कंट्रोल टावर</b>	<b>कंठस्थ कर्ता</b>	उच्चारण स्थानानुसार वर्ण सूची 411 11	<b>कंद भोजी</b>
कंट्रोल टावर 1069 21 ⇨	कंठधर 356 24	<b>कंठाघ</b>	कदाहारी 204 13
<b>कंट्रोल टावर (अँ)</b>	<b>कंठस्थीकरण</b>	कंठीय 145 18	<b>कंदमूल</b>
कंट्रोल टावर 1069 21	रटत 356 4	<b>कंडक्ट करना</b>	कंद 111 10
<b>कंट्रोलर (अँ)</b>	<b>कंठ स्वर</b>	संगीत संचालन करना 460 41	कंदमूल 189 3 ⇨
नियंत्रक 899 12	कंठ स्वर 459 31 ⇨	<b>कंडक्टर (अँ)</b>	मूली 189 32
<b>कंठ</b>	<b>कंठ स्वर (डे.)</b>	संगीत संचालक 460 4	<b>कंदर</b>
आहार नली 145.8	स्वर भंगिमा 299 4	<b>कंडम</b>	गुहा 15 9
उच्चारण स्थान सूची 411 10	<b>कंठ स्वर तान</b>	अनुपयोगी 525 8	मेघ 55 1
कंठ 145.9 ⇨	स्वर अलंकार 465 10	<b>कंडरा</b>	<b>कंदरा</b>
किनारा 1000.10	<b>कंठ स्वर: तीव्रता</b>	उपास्थि 133.2	गुहा 15 9
बरतन: गला 680.25	स्वर अलंकार 465 10	स्नायु 131 13	घाटी 16 16
वाचा तंत्र 145 13	<b>कंठहार</b>	<b>कंडा</b>	मौंद 603 9
स्वर भंगिमा 299 4	कंठहार 228 26 ⇨	* गोबर. उपला 110 14	<b>कंदराकर</b>
<b>कंठ कर्ण नासिका चिकित्सा</b>	<b>कंठहीन</b>	सरकंडा 597 11	पर्वत 16 3
कंठ कर्ण नासिका चिकित्सा 173.7 ⇨	वाचाहीन 429 25	सुखा गोबर 110 13	<b>कंदर्प</b>
<b>कंठगत</b>	<b>कंठहीनता</b>	<b>कंडाल</b>	कामदेव 773.12
रटा [रटी] 356.23	वाचाहीनता 429.5	गंगाल 679.24	पंच कामदेव सूची 773 13
<b>कंठग्रथि</b>	<b>कंठा</b>	<b>कंडील</b>	प्रेम 368.1
गलग्रथि 132 10	कठहार 228.26	कंदील 285 11	<b>कंदर्पवहन</b>
<b>कंठतालव्य वर्ण</b>	गरेबान. कंठा 585 66	<b>कंडेरा</b>	शिव 767 1
उच्चारण स्थानानुसार वर्ण सूची 411 11	गरेबान. कालर 585 67	धुनाई कर्मी 587 6	<b>कंदल</b>
	गला: पट्टा 555.14		युद्ध 905 4

## कदला

### कंदला

जरी 569 13

### कंदशूरण

जमीकद 189 21

### कंदा

अरवी 189 5

शकरकदी 189 34

### कंदाकार

कदाकार 976 20 ⇨

### कंदाकार पिड

कदाकार पिड 976 8 ⇨

### कंदाकृति

कदाकार 976 20

कदाकार पिड 976 8

### कंदाहारी

कदाहारी 204 13 ⇨

### कदीय

कदाकार 976 20

### कंदील

कंदील 285 11 ⇨

### कंदु

भट्टा 109 9

### कंदुक

गाव तकिया 593 65

गेद 479 9

वर्तुल पिड 976 4

### कंदुकता

टिप्पाशीलता 1052 9

### कंदुकनशीलता

टिप्पाशीलता 1052 9

### कंदुक प्रतिक्रिया

टिप्पा 1052 10

### कंदुकाकार

वर्तुलाकार 976 16

समवर्तुलाकार 976 17

### कंदुकाकृति

वर्तुल पिड 976 4

### कंदुकार पिड

वर्तुल पिड 976 4

### कंदुपञ्च

भाइभुंजा [भाइभुंजी] 195 72

### कंध

रकधीय 147 11

### कंधर

कंधर 145 2 ⇨

मेघ 55 1

### कंधरा

कंधर 145 2

ग्रीवा 145 1

### कंधा

आधार सूची 596 2

तीरा 585 63

पार्श्व भाग 997 5

बैसाखी 596 14

मोडा 585 64

स्कंध 147 3

### कंधा-कलाई: हाथ

भुजा 149 5

### कंधा. कवच

रकध कवच 921 10

### कंधा-कुहनी: हाथ

बाहु 149 6

### कंधा झोली

बगली घैला 673 5

### कंधा तलवार: पेटी

कंधा तलवार पेटी 571 4 ⇨

### कंधा पेटी

कंधा पेटी 571 3 ⇨

### कंधा-मध्यमिका छोर: हाथ

हस्त 149 2

### कंधा लगाना

प्रोतभन करना 1062 25

### कंधावर

उत्तरीय 585 7

कंधा पेटी 571 3

रस्सी सूची 570 6

### कंधा विषयक

स्कधीय 147 11

### कंधेला

पलाव कंधेला 586 26

### कंधेली

कंधेली 595 49 ⇨

जीन सूची 595 48

### कंधे से कंधा मिला कर

पार्श्वचरत 696 28

### कंप

कपन 1039 11

स्पद 1039 1

स्वर स्पदन 465 15

### कंपकंपाता [कंपकंपाती]

कपित 1039 20

भय कपित 395 20

### कंपकंपाती सदी

कड़ी सदी 53.2

### कंपकंपाना

ठितुरना 105 18

भय कपित होना 395 14

### कंपकंपाहट

कपन 1039 11

ठितुरन 105 4

### कंपकंपी

कपन 1039 11

झुरझुरी 1039 13

ठितुरन 105 4

भय कपन 395 2

### कंपकंपी होना

कपित होना 1039 17

### कंपन

कपन 1039 11 ⇨

तरगण 1040 15

स्पदन 1039 2

स्वर स्पदन 465 15

### कंपन (तान स्वर)

गिटकिरी 458 12

### कंपनशील

भय कपित 395 20

### कंपन होना

कपित होना 1039 17

### कंपनी

कंपनी 692 4 ⇨

कंपनी 932 21 ⇨

### कंपनी (अँ)

कंपनी 692 4

कंपनी 932 21

दल 691 1

सस्था 692 1

### कंपनी यान

यात्री पोत 1072 41

### कंपनी रोड (अँ)

ठडी सडक 1063 21

### कंपसघर

कपास घर 1073 25

### कंपस नीड

कपास घर 1073 25

### कंपा

कपन 1039 11

### कंपाउंड (अँ)

यौगिक 1008 10

### कंपाउंड (अँ)

अहाता 604 3

### कंपाउंडर (अँ)

औषध वितरक 175 6

### कंपायक

तरगायक 1040 31

### कंपायमान

कपित 1039 20

### कंपाधित

कपित 1039 20

### कंपास (अँ)

कुतुबनुमा 29 20

परकार 956 7

### कंपास घर

कपास घर 1073 25 ⇨

### कंपित

कपित 1039 20 ⇨

भय कपित 395 20

स्पदित 1039 18

### कंपित होना

कपित होना 1039 17 ⇨

### कंपित्र

दोलित्र 1037.9

### कंपिल

कपित 1039 20

तरगित 1040 30

### कंपू

तबू 600 19

सेना 932 1

सेना छावनी 933 7

सैनिक शिविर 933 11

### कंपूटर (सहज हिंदी रूप)

कंप्यूटर 951.1

### कंपैक्ट डिस्क

कंपैक्ट डिस्क 300.18 ⇨

कंपैक्ट डिस्क 951.11 ⇨

### कंपैक्ट डिस्क (अँ)

कंपैक्ट डिस्क 951 11

कंपैक्ट डिस्क 300 18

### कंपोज करना

कंपोजिग करना 413 28

### कंपोजर (अँ)

सगीत सृजन कर्ता 460 7

### कंपोजिग

कंपोजिग 413 11 ⇨

### कंपोजिग (अँ)

कंपोजिग 413 11

### कंपोजिग करना

कंपोजिग करना 413 28 ⇨

### कंपोजिग कर्मी

कंपोजिटर 413 12

### कंपोजिटर

कंपोजिटर 413.12 ⇨

### कंपोजिटर (अँ)

कंपोजिटर 413 12

### कंपोजीशन (अँ)

पिंडी बध 462 20

सगीत कृति 457 6

### कंप्यूटर

कंप्यूटर 951.1 ⇨

### कंप्यूटर (अँ)

कंप्यूटर 951 1

वर्ड प्रोसेसर 413 5

### कंप्यूटर डाटा

कंप्यूटर डाटा 951.25 ⇨

### कंप्यूटर डाटा (अँ)

कंप्यूटर डाटा 951 25

### कंप्यूटर डायरी

कंप्यूटर डायरी 951.6 ⇨

### कंप्यूटर प्रणाली

द्वितीय लव प्रणाली 950 4

### कंप्यूटर मैमरी

कंप्यूटर मैमरी 951.26 ⇨

### कंप्यूटर मैमरी (अँ)

कंप्यूटर मैमरी 951 26

### कंप्यूटर मॉनिटर

कंप्यूटर मॉनिटर 606.7 ⇨

### कंप्यूटर मॉनिटर (अँ)

कंप्यूटर मॉनिटर 606 7

### कंप्यूटर स्क्रीन

कंप्यूटर मॉनिटर 606 7

### कंप्यूटराइज्ड (अँ)

कंप्यूटरीकृत 1046 30

### कंप्यूटरीकृत

कंप्यूटरीकृत 1046.30 ⇨

### कंप्यूटिंग (अँ)

अभिकलन कर्म 953 8

### कंप्रेस (अँ)

सेक पट्टी 104 7

### कंप्लैक्स (अँ)

कुंठा प्रथि 352 6

### कंबल

कंबल 593.6 ⇨

यक्ष सूची 779.3

**कबल आदि**  
भादी उद्घाटन 593 5  
**कबल:** लबादा  
*कबल लबादा 585 20 ⇨*  
**कबली**  
बैल 127 13  
**कबाहन (अँ)**  
हार्बिस्टर 563 16  
**कबी**  
कलछी 681 5  
**कबु**  
कँठ 145 9  
नलाकार अस्थि 133 3  
शंख 461 78  
**कबुक**  
शंख 461 78  
**कबुका**  
ग्रीवा 145 1  
**कैयल**  
कमल 14 4  
**कैवल रोग**  
पीलिया 163 37  
**कंस**  
असुर सूची 783 8  
*कंस 771 46 ⇨*  
कौंसा 94 2  
कौंसा बरतन 680 13  
कृष्ण मामा 771 7  
झोंझ 461 37  
**कंसक**  
कौंसा 94 2  
कौंसा बरतन 680 13  
**कंसताल**  
झोंझ 461 37  
**कंस द्वारा हत बालिका**  
योग माया 771 82  
**कंस पात्र**  
कौंसा बरतन 680 13  
**कंसः पिता**  
उग्रसेन 771 42  
**कंस मामा**  
कंस 771 46  
**कंसल्टेंट (अँ)**  
धिकित्तीय विशेषज्ञ 173 2  
परामर्शक 332 14  
**कंसः श्वसुर**  
जरासंध 771 58  
**कंसहँका**  
कांस्य घट 679 7  
**कंसहँकी**  
कांस्य घट 679 7  
**कंसारि**  
कृष्ण 771.1  
**कैसुला**  
सौंघा सूची 565.20  
**कैसुली**  
सौंघा सूची 565.20

**कंसैट्रिक सर्कल (अँ)**  
सक्रेट्र घक्र 973 3  
**कंसैट्रिपिटी (अँ)**  
संकेंद्रता 971 11  
**क-**  
बुरा उपसर्ग सूची 314 11  
**कअपवादी**  
निंदक 843 22  
**कई**  
अनेक 940 10  
**कईक**  
नौका सूची 1072 3  
**कई बार**  
अनेकदा 73 6  
**ककडी**  
*ककड़ी 190 12 ⇨*  
**ककहरा**  
आरंभिक ज्ञान 994 5  
**ककार**  
*ककार 407 9 ⇨*  
**ककार सूची**  
*ककार सूची 407 10 ⇨*  
**ककुंजल**  
घातक 126 39  
**ककुद**  
कूब 147 9  
**ककुद**  
कूबयुक्त 147 13  
**ककुद**  
शिखर 982 6  
सॉड बैल कूब 147 10  
हल अंकुड़ी 563 9  
**ककुदमान**  
कूबयुक्त 147 13  
**ककुदमी**  
कूबयुक्त 147 13  
बैल 127 13  
विष्णु 768 1  
**ककुभ**  
चक्र चौथा भाग 960 3  
**ककूना**  
कोया 242.2  
रेराम कोया 242.3  
**ककैया**  
लखौरिया ईंट 599.32  
**ककोड़ा**  
*ककोड़ा 189 8 ⇨*  
**कक्का**  
घाघा 722 22  
बालक 230.23  
सिख धर्मावलंबी 737 20  
**कक**  
कछार 25.26  
कमरा 614.1  
घुटन्रा घाघरा 586 10  
पलाव छोर 586.25  
लॉग 586.31  
शिक्षालय कक 321 12

**कक तपु**  
रूम हीटर 104 12  
**ककषप**  
कचुआ 123 2  
**ककष विभाजक दीवार**  
अमुख्य दीवार 607 3  
**ककष शीतित्र (प्र)**  
रूम कूलर 105 7  
**ककषा**  
*ककषा 691.3 ⇨*  
कटि 147 7  
कमरा 614 1  
कोटि 936 1  
परिक्रमा मार्ग 1063 25  
पिडकक्षा 4 1  
शिक्षालय ककषा 321 13  
समाज वर्ग 688 7  
**ककषापट**  
लेंगोट 587 8  
लॉग 5P6 31  
**ककषायली**  
स्वीट 602 29  
**ककषीय**  
कोटीय 936 7  
पार्श्व भागीय 997 19  
**ककष्या**  
मघ पार्श्व 471 17  
मघ सज्जा 471 18  
**क ख ग**  
आरंभिक ज्ञान 994 5  
**कखग**  
वर्णमाला पुस्तक 322 3  
**कखग (हिंदी)**  
साक्षरता 319 6  
**कगर**  
खड़ा तट 25 16  
**कगार**  
उच्च मार्ग 1065 3  
*कगार 1000 8 ⇨*  
खड़, तट 25 16  
छिद्र मुख 271 15  
टीला 16 1  
टोप टोपी बाड़ 584 22  
तट 25 8  
तट बंध 25 19  
नदी कगार 1000 9  
बरतन मुँह 680 22  
मंड 551 22  
**कगार तक**  
ऊपर तक 1004 17  
**कगार तक आना**  
छलकना 1032 17  
**कगार से निकलना**  
छलकना 1032 17  
**कक**  
केश 137.1  
व्रण अकुर 167 13  
शिक्षालय कक 321 12

**कककच**  
कककचाहट 297 3  
तकरार 708 7  
**कककचा [कककची]**  
*कककचा [कककची] 197 26 ⇨*  
**कककचाहट**  
*कककचाहट 297 3 ⇨*  
**ककककड़**  
कछप पृष्ठ 134 19  
**कककपच**  
कककचाहट 297 3  
**ककपैदिया**  
विघलनशील 501 12  
**ककबधिया**  
चरखी 126 35  
सतबहनी चरखी 126 36  
**ककचर ककचर**  
कककचाहट 297 3  
**ककचरघान**  
ककचर पचर 294 10  
जनाकीर्णता 616 11  
शिशु जन 230 2  
हाथापाई 905 23  
**ककचर पचर**  
कककचाहट 297 3  
ककचर पचर 294 10 ⇨  
**ककचरा**  
कूड़ा करकट 214 4  
खरबूजा 190 15  
**ककचरा पट्टी**  
कूड़ेखाना 218 20  
निम्न जन 728 11  
**ककचरा पेटी**  
कूड़ेखाना 218 20  
कूड़ेदानी 218 21  
**ककचरी**  
सशक्त दाल 188 3  
**ककचलोहा**  
कक्या लोहा 93 8  
**ककचलोही**  
कक्या लोहा 93 8  
**ककचलोहू**  
*ककचलोहू 167 15 ⇨*  
देव रुधिर 131 2  
**ककचलोहूदा**  
लोई 195 15  
**ककचहरी**  
कार्यालय 654 3  
दरबार भवन 695 8  
दीवान खाना 614 17  
न्यायालय 874.5  
न्यायालय भवन 874 11  
राज दरबार 889 14  
सभा 694 1  
**ककचहरी: इमारत**  
न्यायालय भवन 874 11  
**ककचहरी में शादी**  
सिविल मैरिज 799 15

## कच्चारना

### कच्चारना

कपड़े कूटना 220 34

### कचालू

साग सब्जी सूची 189 4

### कचिया

अपक्व (वनस्पति) 118 20

कचिया 197 27 ⇨

### कच्चुमर

भरता 201 18

### कचोट

चुभन 270 1

टीस 392 13

### कचोटना

चुभना 270 11

### कचौरा

कटोरा 683 1

### कचोरी

कटोरी 683 6

### कचौड़ी

कचोरी 202 28

### कचौरी

कचौरी 202 28 ⇨

### कच्चर

कीचड़दार 214 10

### कच्चा

अनपका भिक्षात्र 642 9

कच्चा खाना 197 3

परिकल्प 520 6

प्रालेख 520 10

### कच्चा [कच्ची]

अदृढ़ 159 16

अनगढ़ 545 28

अनतला [अनतली] 195 74

अनुभवहीन 304 8

अनुभवहीन सरल 817 9

अपक्व 195 78

अपक्व (वनस्पति) 118 20

अपरिपाचित 195 66

अपरिष्कृत 533 12

अपूर्ण रचित 528 8

अप्रस्फुटित 120 12

अरधित 528 6

अल्प कालीन 38 8

अययस्क 229 22

अविचारित 330 24

असपुष्ट 338 37

अस्निग्ध 197 17

उगमगाता [उगमगाती] 1084 46

दहनशील 539 18

दृढ़मतहीन 344 12

धैर्यहीन 395 27

नौसिखिया 304 10

पूर्वजात 62 19

भग्नप्रतिज्ञा 338 49

भयभीत 395 19

विघलनशील 501 12

### कच्चा आम

कच्चा आम 190.9 ⇨

### कच्चा करना

बातिल करना 338 27

### कच्चा कोयला

लकड़ी कोयला 110 7

### कच्चा खाका

परिकल्प 520 6

### कच्चा खाना

कच्चा खाना 197 3 ⇨

### कच्चा घी

मक्खन 196 6

### कच्चा घमक्का

अपरिष्कृत घर्म 582 27

### कच्चा धिट्टा

सविस्तार विवरण 449 11

### कच्चा जिन

हठी 349 14

### कच्चा जोड़

कच्चा जोड़ 954 4 ⇨

### कच्चा झटका

झटका मास 206 16

### कच्चा टौका

कच्ची बखिया 577 9

### कच्चा पड़ना

धैर्य भग होना 395 18

हिचकना 501 6

### कच्चापन

अदृढ़ता 159 6

अल्प कालीनता 38 3

आरंभिक अवस्था सूची 994 23

धैर्यहीनता 395 10

नश्वरता 38 2

पूर्वजातता 62 7

### कच्चा परिकल्प

परिकल्प 520 6

### कच्चा भोज

कच्ची दावत 183 7

### कच्चा माल

आरंभिक अवस्था सूची 994 23

कच्चा माल 546 3 ⇨

### कच्चा रंग

कच्चा रंग 289 25 ⇨

### कच्चा रास्ता

पगडंडी 1063 47

### कच्चा लोहा

कच्चा लोहा 93 8 ⇨

### कच्चा सूत

कलावा 569 23

### कच्चा सूत: लच्छा

खुथड़ी 575 4

### कच्चा हाल

सविस्तार विवरण 449 11

### कच्ची इमली

हरी इमली 277 9

### कच्ची खबर

अपुष्ट समाचार 440 5

### कच्ची गौठ

इकहरी गौठ 572 3

### कच्ची जाकड़

कच्ची बही 632 11

### कच्ची ज्योनार

कच्ची दावत 183.7

### कच्ची दावत

कच्ची दावत 183.7 ⇨

### कच्ची धातु

कच्ची धातु 93 2 ⇨

खनिज 92 1

### कच्ची नौद

श्वान निद्रा 266 4

### कच्ची परिकल्पना

परिकल्प 520 6

### कच्ची पेशी

कच्ची पेशी 876 6 ⇨

### कच्ची बखिया

कच्ची बखिया 577 9 ⇨

### कच्ची बस्ती

गंदी बस्ती 619 2

### कच्ची बही

कच्ची बही 632 11 ⇨

### कच्ची रसोई

कच्चा खाना 197 3

### कच्ची रूपरेखा

परिकल्प 520 6

### कच्ची रोकड़

कच्ची बही 632 11

रोकड़ उचत 630 10

### कच्ची सिलाई

कच्ची बखिया 577 9

### कच्ची सिलाई करना

कच्ची सिलाई करना 577 24 ⇨

### कच्चू

साग सब्जी सूची 189 4

### कच्चे बच्चे

सतान समष्टि 718 2

### कच्च

कच्चार 25 26

निम्न तट सूची 25 24

बेला तट 25 21

लॉग 586 31

सरस्वती वीणा 775 9

### कच्च दीप्ति

बड़वा दीप्ति 287 18

### कच्चप

कच्चुआ 123 2

कुबेर नवनिधि सूची 779 12

कूर्म अवतार 769 19

पृथ्वीधर सूची 9 3

मद्य आसवन शाला 82 3

### कच्चप पृष्ठ

कच्चप पृष्ठ 134.19 ⇨

### कच्चपावतार

कूर्म अवतार 769.19

### कच्च भूमि

कच्चार 25 26

### कच्च

ककार सूची 407.10

नौका सूची 1072 3

पजमिया 587.9

बेड़ा 1072 51

### कच्च

पजमिया 587 9

### कच्चनी

लॉग 586 31

### कच्चरा

नदी कगार 1000.9

### कच्चार

कच्चार 25.26 ⇨

खादर 552 5

निम्न तट सूची 25 24

बेला तट 25 21

### कच्चार भूमि

खादर 552 5

### कच्चुआ

कच्चुआ 123.2 ⇨

### कच्चोटा

चुट्टा घाघरा 586 10

लॉग 586 31

### कज

अवनमित 1025 8

वक्र 974 16

### कजकाल

भिक्षा भाड सूची 642 12

### कजरारा [कजरारी]

काला 289 37

नेत्राजित 225 40

### कजरी

कजली 457 30

होली गीत 57 33

### कजला [कजली]

नेत्राजित 225 40

### कजली

कजली 457 30 ⇨

कालिख 106 18

### कजलीटा

सुरमादानी 225 36

### कजलीटी

सुरमादानी 225 36

### कज्रा

न्याय निर्णय 877 14

प्रारब्ध 260 1

मृत्यु 249.1

### कजाक

छली 827 24

बटमार 864 34

लुटेरा 864 22

### कजावा

कजावा 585.51 ⇨

ज़ीन सूची 595.48

### कजुक्क

काजू 191.4

### कजजल

कालिख 106.18

मेघ 55.1

**कज्जलित**  
नेत्राजित 225 40  
**कफजाक्र**  
बटमारी 864 34  
लुटेरा 864 22  
**कफजाक्री**  
छल 827 7  
बटमारी 864 33  
लूट 864 21  
**कटंब**  
बाण 926 16  
**कटक**  
वृत्त (घक्र) 977 1  
समूह 690 1  
सेना 932 1  
सेना छावनी 933 7  
**कटका**  
पोछा 218 16  
**कटकीय**  
सैन्य 932 34  
**कटखना [कटखनी]**  
चिड़चिड़ा [चिड़चिड़ी] 373 32  
दत्त प्रहार कर्ता 918 36  
**कटग्लास (अं)**  
बिल्लीरी कौंच 283 15  
**कटडा**  
गली 1063 49  
भैस कटडा 230 18  
**कटडी**  
भैस कटडी 230 19  
**कटन**  
कतरन 938 4  
**कटन धिरन**  
कटाई फटाई 543 8  
**कटन फटन**  
कटाई फटाई 543 8  
**कटना**  
अतीत होना 63 5  
धराशायी होना 1027 12  
विलग होना 1011 3  
व्यतीत होना 74 2  
हास होना 531 6  
**कटनास**  
नीलकंठ 126 46  
**कटपीस (अं)**  
वस्त्र कटपीस 579 23  
**कट भरना**  
युद्ध में भरना 249 20  
**कटर (अं)**  
नीका सूची 1072 3  
यंत्र नीका 1072 10  
**कटरा**  
गली 1063 49  
बाजार 863 1  
महल्ला 619 6  
शहरी सड़क 1063 37  
**कटलरी**  
कटलरी 681 13 ⇨

**कटलरी (अं)**  
कटलरी 681 13  
बरतन सैट सूची 680 19  
**कटलरी सूची**  
कटलरी सूची 681 14 ⇨  
**कटलेट**  
कटलेट 200 15 ⇨  
**कटलेट (अं)**  
कटलेट 200 15  
**कटल्ला**  
खतना कृत 798 47  
**कटल्ला (हिंदू बोलचाल)**  
मुसलिम 736 2  
**कटहरा**  
कटहरा 605 2 ⇨  
**कटहल**  
कटहल 189 9 ⇨  
साग सब्जी सूची 189 4  
**कटहा**  
अंतिम सस्कर कर्ता बाल्यण 731 15  
**कटा [कटी]**  
उत्कीर्ण 406 41  
कटीती कृत 664 36  
कर्तित 543 14  
ग्रहण ग्रत 6 7  
दशित 181 65  
धराशायी 1027 22  
मदित (प्रभाव) 511 20  
विलग्न 1011 5  
सक्षिप्त 980 24  
हटा [हटी] 32 9  
**कटाई**  
ऊँचाई कटाई 986 5  
कतराई 543 9  
कर्तन 543 1  
कुतरन 181 12  
केश कर्तन 224 3  
घास कटाई 556 11  
फसल कटाई 548 18  
फॉक कटाई 543 6  
सक्षेपण 980 5  
**कटाई उपकरण**  
कटाई उपकरण 561 1 ⇨  
**कटाई करना**  
काटना 543 13  
फसल काटना 548 39  
**कटाई कर्ता**  
कर्तक 543 16  
**कटाई बिराई**  
कटाई फटाई 543 8  
**कटाई छँटाई**  
कटाई छँटाई 543 7 ⇨  
सक्षेपण 980 5  
**कटाई फटाई**  
कटाई फटाई 543 8 ⇨  
**कटाकटी**  
खटपट 708 3  
मारकाट 905 25

वैमनस्य 706 10  
**कटाक्ष**  
कटाक्ष 844 3 ⇨  
तिरछी घितवन 284 6  
**कटाक्ष करना**  
कटाक्ष करना 844 7 ⇨  
**कटाक्ष कर्ता**  
कटाक्ष कर्ता 844 14 ⇨  
**कटाक्षपूर्ण**  
कटाक्षपूर्ण 844 13 ⇨  
**कटाक्ष लगना**  
कटाक्ष लगना 844 8 ⇨  
**कटा चौंद**  
अर्ध चंद्रमा 8 6  
**कटा चारा**  
कुट्टी 556 5  
**कटाटक**  
शिव 76 1  
**कटा उठल: खूँटी**  
कटा उठल खूँटी 114.2 ⇨  
**कटान**  
कटान 15 6 ⇨  
काट 543 2  
बीहड़ता 987 4  
बीहड़ भूमि 987 5  
**कटापन**  
बीहड़ता 987 4  
यिलग्नता 1011 2  
हटापन 32 3  
**कटार**  
ककार सूची 407 10  
रूपाण 924 1  
हूरी 561 9  
**कटारा**  
जर्जर गाड़ी 1071 31  
ठला 1071 6  
हरी इमली 277 9  
**कटारी**  
रूपाण 924 1  
**कटाव**  
कटान 15 6  
**कटायदार**  
बीहड़ 987 9  
**कटावदार भूमि**  
बीहड़ भूमि 987 5  
**कटास**  
बन बिलाव 127 59  
**कटाह**  
कच्छप पृष्ठ 134 19  
कड़ाह 682 4  
कूप 19 3  
नरक 259 6  
नर भैस 127 20  
भैस कटडा 230 18  
मृदाभांडांश 77 6  
राशि 886 2  
लौह शिर कवच 921 6

**कटाही**  
भैस कटडी 230 19  
**कटि**  
कटि 147 7 ⇨  
नितंब 148 13  
गध्य भाग 996 3  
**कटिक**  
जोत गाड़ी 1071 28  
**कटिका**  
नितंब 148 13  
**कटितट**  
कुल्हा 148 11  
**कटि परिधान**  
कटि परिधान 586 1 ⇨  
**कटिबंध**  
कमरबंद 571 8  
करधनी 228 7  
**कटिबद्ध**  
सन्नद्ध 491 16  
**कटिबद्धतः**  
सन्नद्धतः 491 20  
**कटिबद्धता**  
प्रतिबद्धता 826 6  
सन्नद्धता 491 4  
**कटिभूषण**  
करधनी 228 7  
**कटिया**  
भैस कटडी 230 19  
**कटियस्त्र**  
कटि परिधान 586 1  
**कटिसूत्र**  
कमरबंद 571 8  
करधनी 228 7  
**कटिहीनता**  
पतली कमर 158 7  
**कटिहीना**  
पतली कमर वाली 158 30  
**कटी फ़सल ढेर**  
कटी फ़सल ढेर 686 10 ⇨  
**कटीर**  
कुल्हा गड़दा 148 12  
**कटीला [कटीली]**  
सुंदर 157 7  
**कटु**  
कटुभाषी 432 12  
कड़वा [कड़वी] 276 7  
तीक्ष्ण स्वभावी 838 9  
भुतिकटु 294 26  
पड़ स्वाद सूची 275 3  
**कटु कंद**  
लहसुन 281 29  
**कटुक**  
कड़वा [कड़वी] 276 7  
काली मिर्च 278 4  
**कटुस्वाण**  
टिटिहरी 126 42  
**कटुता**  
कड़वाहट 276 1

## कटुपाल

वैमनस्य 706 10

### कटुफल

करेला 189 12

### कटुबीजा

पीपल 13 14

### कटु भाषण

कटु भाषण 432 4 ⇨

### कटु भाषण करना

कटु भाषण करना 432 8 ⇨

### कटु भाषा

कटु वचन 432 3

### कटुभाषी

कटुभाषी 432 12 ⇨

### कटुभाषी [कटुभाषिणी]

कटुभाषी 432 12

### कटुरय

मेढक 124 2

### कटु रचन

कटु रचन 432 3 ⇨

### कटु सत्य

अग्रिय सत्य 820 8

### कटु स्वभाव

तीक्ष्ण स्वभाव 838 2

### कटु स्वभावी

तीक्ष्ण स्वभावी 838 9

### कटु स्वाद

कड़वाहट 276 1

### कटुक्ति

कटु वचन 432 3

### कटे पुष्पः गुच्छा

पुष्प गुच्छ 12 34

### कटेहर

हल अंकुड़ी 563 9

### कटैना

कटाई उपकरण 561 1

### कटैनी

कटाई उपकरण 561 1

### कटैया

फसल काटने वाला 548 19

### कटोरदान

कटोरदान 676 8 ⇨

### कटोरा

कटोरा 683 1 ⇨

जलघड़ी 50 17

मिक्षा भाड सूची 642 12

### कटोरा पत्तो का

दोना 683 12

### कटोरी

अंगिया कटोरी 585 68

कटोरी 683 6 ⇨

ना फ़ाल्सी 587 6

### कटोरी: कली

कटोरी कली 585.69 ⇨

### कटोरी: सीवन

कटोरी सीवन 585 70 ⇨

### कटौती

कटौती 664.17 ⇨

दलाल शुल्क 659 5

### कटौती करना

कटौती करना 664.27 ⇨

### कटौती कृत

कटौती कृत 664 36 ⇨

### कटौनी

कटौती 664 17

### कट्टम

अस्वीकृति चिह्न 407 5

### कट्टम कट्टा

मारकाट 905 25

### कट्टम की कढ़ाई

क्रोस स्टिच 572 10

### कट्टर

अधिचल 500 15

असहिष्णु 873 13

उग्रवादी 343 21

दृढमतपूर्ण 343 13

मताध 343 18

हठी 349 14

### कट्टरता

अधिचलता 500 5

दृढमता 343 2

मताधता 343 11

### कट्टर पंथी

मताध 343 18

### कट्टरपन

हठीतापन 349 5

### कट्टर विश्वासी

अंधानुगामी 345 8

### कट्टा

अस्वीकृति चिह्न 407 5

कट्टा 959 45

बोरी 673 20

भैस कट्टा 230 18

### कट्टा [कट्टी]

बलिष्ठ 160 10

### कट्टी

मित्रता विस्थापना 705 16

### कट्टी होना

मित्रता दूटना 705 24

### कट्टुमरम

नौका सूची 1072 3

### कट्टुमरम (तामिल)

दोनावा 1072 20

### कट्टो गिलहरी

गिलहरी 127 64

### कट्टा: 20

जरीब 959 22

### कट्टर

परपरावादी 343 23

### कट्टा

कट्टा 959.45 ⇨

### कठ

कठोर 269 17

निकृष्ट 314 5

### कठ-

बुरा उपसर्ग सूची 314 11

### कठ उपनिषद

उपनिषद सूची 740 13

### कठकोला

कठफोर 126 15

### कठधरा

कठहरा 605 2

गोशाला 603 24

### कठपुतली

कठपुतली 473 5 ⇨

### कठपुतली का खेल

कठपुतली खेल 473 4

### कठपुतली का तमाशा

कठपुतली खेल 473 4

### कठपुतली खेल

कठपुतली खेल 473.4 ⇨

### कठपुतली वाला

कठपुतली वाला 473 7 ⇨

### कठफोड़

कठफोर 126 15

### कठफोड़वा

कठफोर 126 15

### कठफोर

कठफोर 126.15 ⇨

बसता 126 58

### कठबाप

सौतेला पिता 717 10

### कठबैद

अनाड़ी चिकित्सक 171 14

### कठमर्द

शिय 767 1

### कठमस्त

बलिष्ठ 160 10

### कठमस्ता

अलमस्त 382 23

### कठमुल्ला

अल्प शिक्षित 321 43

कठमुल्ला 343 22 ⇨

### कठमोर

कठफोर 126 15

### कठरा

कठौता 679 43

### कठरी

कठौती 679 44

### कठयत

कठौती 679 44

### कठयता

कठौता 679 43

### कठवैद्य

अनाड़ी चिकित्सक 171 14

### कठहुज्जत

वितडा 324.5

### कठहुज्जती

वितडावादी 324.27

### कठारी

काठ बरतन 680 3

### कठिन

अदम्य 519 28

अपठनीय 401 12

असह्य 873 14

अस्पष्ट 823 11

कठिन 519.18 ⇨

कूट 823 12

दोस 269.23

दुर्निवार्य 919 10

दुर्बाध्य 519 23

दुर्लभ 942 19

संकटप्रद 909 20

सकटात्मक 909 21

### कठिन आशा

दुराशा 375 2

### कठिन कार्य

कठिन कार्य 519 2 ⇨

कठिन कार्य: उपमान सूची

कठिन कार्य उपमान सूची 487 34 ⇨

कठिन कार्य करना

कठिन कार्य करा 487 17 ⇨

### कठिन कार्यक्षम

कठिन कार्यक्षम 487 28 ⇨

कठिन कार्य में लगना

कठिन कार्य में लगना 487.16 ⇨

### कठिन काल

सकट काल 909 7

### कठिनता:

कठिनता 519 31 ⇨

### कठिनता

अबाध्यता 519 7

अस्पष्टता 823 11

कठिनता 519 1 ⇨

दुर्लभता 942 5

### कठिन + होना

सहज होना 518 12

### कठिन परीक्षा

अग्नि परीक्षा 876.3

कठिन परीक्षा 322.12 ⇨

### कठिन भाषा

क्लिष्ट भाषा 421 22

### कठिन विषय

समस्या 333 11

### कठिन श्रम

परिश्रम 493 1

### कठिन संकट

महा संकट 909 2

### कठिन होना

कठिन होना 519.15 ⇨

### कठिनाई

असुविधा 519 3

कठिनता 519 1

दुर्लभता 942.5

संकट 909 1

### कठिनाई में फैसना

सकट में पड़ना 909 11

### कठिनाई से

कठिनत 519 31

### कठिनिका

कठिनिका 150.19

**कठैला**  
कठीता 879 43  
**कठैली**  
कठैली 679.44  
**कठोर**  
अनम्य 1050.33  
अभावुक 358 30  
कठोर 269.17 ⇨  
कठोर व्यवहारी 831 11  
कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8  
ठोस 269 23  
दृढमतपूर्ण 343 13  
निर्दय 835 10  
भृतिकदु 294 26  
हृदय भंजक 391 34  
**कठोर कारावास**  
कठोर कारावास 868 15 ⇨  
**कठोर जल**  
कठोर जल 88 2 ⇨  
**कठोरता**  
कठोरता 269.3 ⇨  
कठोर व्यवहार 83: 2  
निर्दयता 835 2  
**कठोर विष्ठा**  
कठोर विष्ठा 216 3 ⇨  
**कठोर व्यवहार**  
कठोर व्यवहार 831 2 ⇨  
**कठोर व्यवहार करना**  
कठोर व्यवहार करना 831 8 ⇨  
**कठोर व्यवहारी**  
कठोर व्यवहारी 831 11 ⇨  
**कठोरहृदय**  
कठोरहृदय 835 11 ⇨  
कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8  
**कठोरहृदय (प्रेमपात्र)**  
कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369.8 ⇨  
**कठीत**  
कठीती 679 44  
**कठीता**  
कठीता 679.43 ⇨  
काठ बरतन सूची 680 4  
**कठीती**  
कठीती 679 44 ⇨  
काठ बरतन सूची 680 4  
**कडंगर**  
तिनका 938 23  
**कडंगा [कडंगी]**  
दृढकाय 160.12  
धृष्ट 734 20  
बलिष्ठ 180.10  
**कडक**  
कठोर 289 17  
कड़ा [कड़ी] 197 25  
घटघटाहट 297 16  
चीकड़ी घाल 1084.25  
शक्तिशाली 487.20  
भृतिकदु 294.26

**कडकक**  
पटपट 296 22  
**कडककाली सर्दी**  
कड़ी सर्दी 53 2  
**कडककाना**  
घोर ध्वनि करना 294 17  
**कडककहाट**  
कड़कहाट 297.4 ⇨  
**कडकना**  
घोर ध्वनि करना 294 17  
**कडका [कडकी]**  
कगाल 62/ 21  
**कडकी**  
अभावग्रस्तता 627 2  
**कडखा**  
वीर काव्य 451 14  
**कडखा [कडखी]**  
कोधी 373 29  
**कडखैत**  
सेना चारण 841 14  
**कडवा [कडवी]**  
असह्य 873 14  
कडवा [कडवी] 276 7 ⇨  
चिड़चिड़ा [चिड़चिड़ी] 373 32  
**कडवा घूँट**  
अप्रिय वचन 432 2  
**कडवा घूँट पीना**  
असह्य को सहन करना 872 10  
**कडवा ज़हर**  
बहुत कडवा 276.6  
**कडवाना**  
कडवा होना 276 4  
**कडवा बोलना**  
कदु भाषण करना 432 8  
**कडवा लगना**  
कडवा लगना 276 3 ⇨  
**कडवा सघ**  
अप्रिय सत्य 820 8  
**कडवाहाट**  
कड़वाहट 276 1 ⇨  
वैमनस्य 706 10  
**कडवा होना**  
कडवा लगना 276 3  
कडवा होना 276.4 ⇨  
**कडवी खिचड़ी**  
मृत्यु भोज सूची 183 11  
**कडवी बात**  
कदु वचन 432 3  
**कडवी रोटी**  
मृत्यु भोज सूची 183 11  
**कडहन**  
धान सूची 187 12  
**कड़ा**  
ककार सूची 407 10  
कड़ा 228.6 ⇨  
छल्ला 1016 29  
बरतन हत्था 680 29

**कड़ा [कड़ी]**  
अदम्य 519 28  
अनम्य 1050 33  
अविचल 500 15  
असह्य 873 14  
कठिन 519 18  
कठोर 269 17  
कठोर व्यवहारी 831 11  
कठोरहृदय 835 11  
कड़ा [कड़ी] 197 25 ⇨  
कर्कश स्वरीय 299 26  
चीड़ा [चीड़ी] 197 36  
ठोस 269 23  
दृढमतपूर्ण 343 13  
प्रबल 487 24  
बालेष्ठ 160 10  
शक्तिशाली 487.20  
शुष्क 89 9  
भृतिकदु 294 26  
सुदृढ़ 160 15  
**कड़ाई**  
कठोर व्यवहार 831 2  
**कड़ाका**  
कड़कहाट 297 4  
धमाका 296 21  
**कड़ापन**  
कठोरता 269 3  
कठोर व्यवहार 831 2  
निर्दयता 835 2  
शुष्कता 89 1  
**कड़ा बड़ा बीज**  
गुठली 112 3  
**कड़ाह**  
कड़ाह 662.4 ⇨  
पाक भांड सूची 682 2  
लीह शिर कवच 921 6  
**कड़ाह प्रसाद**  
कड़ाह प्रसाद 750 14 ⇨  
**कड़ाहा**  
कड़ाह 682 4  
पाक भांड सूची 682 2  
**कड़ाही**  
कड़ाही 682 7 ⇨  
पाक भांड सूची 682 2  
**कड़ाही अँगठी आदि**  
बारदाना 560.1  
**कड़ाही: तलाई**  
कड़ाही तलाई 195 33 ⇨  
कड़ाही में तलना  
कड़ाही में तलना 195.53 ⇨  
**कड़ियल**  
अति आविष्ट 371 9  
अति कृपण 639 27  
असह्य 873.14  
कठोर 269 17  
कठोरहृदय 835 11  
कर्कश 838 10  
दुराग्रही 349.12

**कड़ी**  
कुड़ा 1016 28  
गीत अतरा 461 22  
घप्पू कुड़ा 1073 7  
पीड़ी 727 27  
प्रालबन छल्ला 1016 31  
प्रालबन सूची 1024 5  
भेंवर कली 1077 18  
शहतीर 611 22  
शुखला कड़ी 569 27  
सकट काल 909 7  
**कड़ी क्रवायद**  
दंड स्वरूप झिल 1083 7  
**कड़ी क्रैद**  
कठोर कारावास 868 15  
**कड़ी गरमी**  
कड़ी गरमी 53 8 ⇨  
**कड़ी गरमी होना**  
कड़ी गरमी होना 53 12 ⇨  
**कड़ी नज़र रखना**  
पर्यवेक्षण करना 284 45  
**कड़ी निगाह**  
पर्यवेक्षण 284 21  
**कड़ी परीक्षा**  
कठिन परीक्षा 322 12  
**कड़ी मेहनत**  
अति परिश्रम 493 3  
**कड़ी सर्दी**  
कड़ी सर्दी 53 2 ⇨  
**कड़ुआना**  
क्रुद्ध होना 373 15  
**कड़ेरा**  
ख़राद कर्मी 564 4  
**कड़ना**  
उबरना 1030 15  
निकलना 1092 11  
**कड़नी**  
मथन रस्सी 554 15  
**कड़ा [कड़ी]**  
उदक्याथित 195 76  
कड़ाईदार 577 31  
निष्कर्षित 83 14  
**कड़ाई**  
कड़ाई कर्म 577 12  
कड़ाई काम 577 14  
निष्कर्षण 83 1  
**कड़ाई करना**  
कड़ाई करना 577.27 ⇨  
**कड़ाई कर्म**  
कड़ाई कर्म 577.12 ⇨  
**कड़ाई कर्मी**  
कड़ाई कर्मी 577.13 ⇨  
**कड़ाई काम**  
कड़ाई काम 577.14 ⇨  
**कड़ाईदार**  
कड़ाईदार 577.31 ⇨  
**कड़ाई फ्रेम**  
कड़ाई फ्रेम 562.21 ⇨

## कढ़ाई बेल

### कढ़ाई बेल

कढ़ाई बेल 578.14 ⇨

### कढ़ी

कढ़ी 201.15 ⇨

### कदुआ

कदुआ 681.7 ⇨

प्रातः बासी उपाहार 200.3

### कदुला

कदुआ 681.7

### कदुया

कदुआ 681.7

### कड़ैया

उबारने वाला 1030.27

निष्कासक 1092.19

### कण

अनाज खड 192.1

कण 938.2 ⇨

क्षीण वर्षा 54.9

खड 938.1

बूँद 88.11

### कण गुगल

गुगल 274.18

### कण ग्रास

जीवार्थ आहार सूची 183.29

### कण यंत्र

फुहारा 1032.10

### कणरी

अनाज बाल 113.8

### कण वर्षा

क्षीण वर्षा 54.9

### कणाटीरक

खजन 126.24

### कणाद

उछाहारी 204.11

ऋषि मुनि सूची 789.17

### कणारम

प्रनाइट 99.3

### कणिक

कणी 938.3

कनिष्ठिका 150.19

जीरा 281.18

तिनका 938.23

### कणिश

अनाज बाल 113.8

### कणी

अनाज खड 192.1

कणी 938.3 ⇨

क्षीण वर्षा 54.9

### कणीक

सूक्ष्मतम 980.22

### कणीकरण

घूर्णन 540.1

### कणीकृत

घूर्णित 540.15

### कण्य

ऋषि मुनि सूची 789.17

### कल

कलमः जीम काट 416.4

### कलताई

अवश्यमेव 68.21

एकमात्र 946.20

### कलक

नयो 507.9

### कलन

तकली 562.12

### कलनी

कताई सामान टोकरी 677.8

तकली 562.12

### कलरछौट

कटाई छँटाई 543.7

### कलतरन

कलतरन 938.4 ⇨

कलतर 938.6

### कलतरनी

कैची 561.4

### कलतरब्याँल

कटाई छँटाई 543.7

### कलतरब्योल

विमर्श 330.11

### कलतरयी

विकर्णयुक्त 1026.11

### कलतरा

कतला 938.5

### कलतरा

धिप्पड़ 938.40

बड़ी नीका 1072.14

### कलतरा

बूँद 88.11

### कलतरा [कलतर]

कतित 543.14

### कलतराई

कलतराई 543.9 ⇨

कर्तन 543.1

कुतराई 543.10

### कलतराना

कामघोरी करना 490.7

चुपचाप पलायन करना 916.11

लज्जा प्रदर्शन करना 845.7

### कलतरा

धिप्पड़ 938.40

डैविट 1073.29

### कलतल की रात

अंतिम अवसर 70.7

### कलतला

अनाज. खड 192.1

कटलेट 200.15

कलतला 938.5 ⇨

कातल 125.3

फौक 938.29

मास खड 206.25

### कलतली

कटलेट 200.15

### कलतवार

कूड़ा करकट 214.4

### कलतवारस्थाना

कूड़ेदानी 218.21

### कलता

काट 543.2

क्रिता 452.21

### कलताई

कलताई 567.7 ⇨

### कलताई कर्मी

कलताई कर्मी 567.8 ⇨

### कलताई यंत्र

कलताई यंत्र 562.5 ⇨

### कलताई सामानः टोकरी

कलताई सामान टोकरी 677.8 ⇨

### कलताकलामी

कलताकलामी 435.2 ⇨

### कलताकलामी करना

कलताकलामी करना 435.18 ⇨

### कलतार

व्यु 991.10

पक्ति 691.4

प्यु 745.25

समूह 690.1

### कलतिपय

अनेक 940.10

अल्प 942.13

### कलतिपयता

अल्पता 942.1

### कलतौनी

कलताई 567.7

### कलत्तर

कलत्तर 938.6 ⇨

जीर्ण परिधान 583.4

पट्टी 571.1

ग्रण पट्टी 174.16

### कलतल

धिप्पड़ 938.40

### कलत्ती

कलताई कर्मी 567.8

कृपाण 924.1

### कलत्थई

कलत्थई 289.36 ⇨

### कलत्थक

भारतीय शास्त्रीय नृत्य सूची 462.7

### कलत्थना

डींग 842.4

### कलत्था

कलत्था 213.21 ⇨

पान मसाला सूची 213.20

### कलत्तल

हत्या 251.5

### कलत्तल की रात

अंतिम दिन 39.4

### कलत्तलगाह

हत्या स्थल 251.6

### कलत्तलबाज़

जल्लाद 871.17

### कलत्तो गारत

कलत्तो गारत 905.26 ⇨

### कलत्थ

कैसे 514.20

### कथंकथिक

प्रश्न कर्ता 333.24

### कथक

अभिनेता 464.5

अभिव्यक्ति कर्ता 428.18

कथन कर्ता 430.18

कथा उद्घोषक 467.3

कथा वाचक 399.11

कथा वाचक 749.19

वर्णन कर्ता 449.27

वाचयिता 399.9

सूत्रधार 468.13

### कथकली

भारतीय शास्त्रीय नृत्य सूची 462.7

### कथककड़

कथा वाचक 749.19

### कथन

अभिव्यक्ति 428.1

आज्ञा 347.1

उक्ति 434.1

कथन 430.1 ⇨

बयान 876.8

भाषण 430.8

मूल्य निवेदन 664.6

वक्तव्य 441.12

यथन 339.15

वर्णन 449.1

संज्ञापन 441.7

साराश 449.12

### कथन इच्छा

अभिव्यक्ति इच्छा 428.2

### कथन कर्ता

कथन कर्ता 430.18 ⇨

### कथनानुसार

आज्ञानुसारत 347.22

### कथनीय

कथनीय 430.17 ⇨

वर्णनीय 449.25

### कथरी

गुदड़ी 593.46

जीर्ण परिधान 583.4

थेगलीदार परिधान 583.5

साधु वेश 589.10

### कथांतर

गौण कथा 466.9

### कथा

कथा कृति 450.3

घटना चक्र 75.4

### कथा आधार

पूर्व पीठिका 466.17

### कथा उद्घोषक

कथा उद्घोषक 467.3 ⇨

### कथा कहानी

कथा कृति 450.3

### कथाकार

कथाकार 448.10 ⇨

कथा वाचक 749.19



कथा कीर्तन  
कथा वाचन 749 18  
कथा कृति  
कथा कृति 450 3 ⇨  
कथा गायक  
कथा गायक 749 17 ⇨  
कथा वाचक 749 19  
कथा गायन  
कथा गायन 749 16 ⇨  
कथाचित्र  
कथाचित्र 472 5 ⇨  
कथा चित्र  
कथाचित्र 47 5  
कथा तत्त्व  
कथायस्तु 466 6  
कथानक  
कथानक 466 11 ⇨  
कथायस्तु 466 6  
कथा नायक  
नायक 467 5  
कथा नायिका  
नायिका 487.10  
कथा पात्र  
चरित्र पात्र 467 1  
कथा पीठ  
कथा प्रस्तावना 466 13  
मुख्य घटना 466 14  
कथा पुराण  
पुराण 740 15  
कथा पुरुष  
नायक 467 5  
कथा प्रवेश  
कथा प्रस्तावना 466 13  
पूर्व पीठिका 466 17  
कथा प्रस्तावना  
कथा प्रस्तावना 466 13 ⇨  
कथा फल  
कथा फल 466 12 ⇨  
कथा फ़िल्म  
कथाचित्र 472 5  
कथा बौध्दना  
कथा वाचन करना 749 42  
कथा भूमिका  
पूर्व पीठिका 466 17  
कथामुख  
कथा प्रस्तावना 466 13  
कथा लक्ष्य  
कथा फल 466 12  
कथायस्तु  
कथायस्तु 466.6 ⇨  
कथावस्तु परिचय  
प्ररोधना 468.23  
कथावस्तु: प्रकार सूची  
कथावस्तु: प्रकार सूची 466.7 ⇨  
कथावस्तु विकास  
कथावस्तु विकास 466.8 ⇨  
कथा वाचक  
कथा उद्घोषक 467 3

कथा वाचक 399 11 ⇨  
कथा वाचक 749 19 ⇨  
लक्ष कुश 770.54  
कथा वाचन  
कथा वाचन 749.18 ⇨  
कथा वाचन 399.10 ⇨  
कथा वाचन करना  
कथा वाचन करना 749 42 ⇨  
कथा वार्ता  
कथा कृति 450 3  
कथा वाचन 749 18  
कथा विकास  
कथानक 466 11  
कथा श्रोता  
कथा श्रोता 749 20 ⇨  
कथा संकेत  
कथा सूचना 466 15  
कथा समाहार  
नाटक फलागम 466 16  
कथा साहित्य  
कथा कृति 450 3  
कथा सुनाना  
कथा वाचन करना 749 42  
कथा सूचना  
कथा सूचना 466 15 ⇨  
कथासूत्र  
कथानक 466 11  
कथित  
अभिव्यक्त 428 17  
कथित 430 16 ⇨  
प्रवादित 440 8  
संज्ञापित 441 19  
कथित असत्य  
असत्य कथन 82 5  
कथित करना  
कहना 430 11  
कथित मूल्य  
निवेदित मूल्य 664 7  
कथित सत्य  
सत्य वचन 820 10  
कथोपकथन  
नाटक सहाय 465 1  
वार्तालाप 435 1  
कथ्य  
अर्थ 426 1  
उक्ति 434 1  
कथनीय 430 17  
भूमिका 447 8  
कदंब  
कदंब 13 6 ⇨  
नगर वृक्ष सूची 13 2  
रविमार्ग उत्तर ध्रुव 5 14  
कदंबक  
कदंब 13 6  
कदंब: पुष्य मंदिरा  
कदंब पुष्य मद्य 209.5  
कदंब: पुष्य मद्य  
कदंब पुष्य मद्य 209.5 ⇨

कद  
कद 154 2 ⇨  
कद क्रामत 154 1  
कद  
कद 36 23  
कद-  
बुरा उपसर्ग सूची 314 11  
कद क्रामत  
कद कामत 154 1 ⇨  
कदन  
वध 251 3  
हत्या 251 5  
कदम  
एक पद 1083 2  
कदम  
कदब 13 6  
कदम  
चरण 150 9  
पदचिह्न 867 4  
पैर 149 12  
कदम उठाना  
कार्यान्वयन करना 505 12  
जाना 1091 6  
पदन्यास करना 1083 19  
पयल करना 489 5  
कदम कदम  
पार्श्वघरत 696 28  
मार्च 1083 11  
कदम कदम चलना  
मार्च करना 1083 22  
कदमचा  
खुड़ड़ी 216 21  
कदम चाल  
अश्वगति सूची 1084 24  
कदम ब कदम  
पद प्रति पद 1083 29  
पार्श्वघरत 696 28  
कदम बड़ा कर  
उद्यतत 491 19  
कदम बड़ाना  
दुत गमन करना 1044 5  
लंबा पद भरना 1083 20  
कदमबाज़ी  
अश्व प्रशिक्षण 555 10  
मार्धिग 1083.12  
कदमबोसी  
चरण चुंबन 1060 3  
सादर उपस्थिति 1021 3  
कदमबोसी करना  
सादर उपस्थित होना 1021 7  
कदम भरना  
पदन्यास करना 1083.19  
कदम मिलाई  
मार्धिग 1083.12  
कदम मिला कर चलना  
मार्च करना 1083 22  
कदम मिलाना  
मार्च करना 1083.22

कदम रचना  
पदन्यास करना 1083.19  
कदम से कदम मिला कर  
पार्श्वघरत 696 28  
कदर  
मात्रा 946 3  
माप 958  
मूल्य 664.1  
कदर्थ  
क्यो 507 9  
कदर्थन  
उत्पीड़न 391.10  
कदली  
केला 190.13  
कदलीजंघा [कदलीजंघा]  
मुदर जंघा वाला 158.33  
कदा  
कद 36.23  
भंडार 670 3  
कदाघन  
कभी कभी 36 25  
कदाचार  
दुरचरित्रता 811 1  
विवाह अनिष्टा 806 1  
कदाचारिणी  
दुरचरित्रा 811 6  
व्यभिचारिणी 806 11  
कदाचारिता  
दुरचरित्रता 811 1  
कदाचारी  
दुरचरित्र 811 5  
व्यभिचारि 806 10  
कदाधित  
कभी 36 24  
संभवत 68 19  
कदाधित नहीं  
असंभवत 68 20  
कदाधि  
अवरयमेव 68.21  
कभी 36 24  
कदाधि नहीं  
असंभवत 68 20  
कदाधि नहीं  
कभी नहीं 72 12  
कदामत  
पारंपरिकता 795.2  
प्राचीनता 63 1  
कदाशय  
दुर्जन 818 5  
कदाहार  
कुपथ्याहार 182.8  
कदीमी  
धिरवासी 618.32  
पारंपरिक 795.13  
प्राचीन 63.6  
कदीमीपन  
धिरवास 618.8

## क्रदावर

क्रदावर  
लवे क्रद वाला 154 13

## क

कह 189 10 ⇨  
धिया 189 19  
साग सब्जी सूची 189 4

## कइकस

धीयाकस 560 12

## क्रद्र

आदर 854 1  
प्रतिष्ठा 849 2  
सत्कार 184 1

## क्रद्रदान

गुणज्ञ 305 34

## क्रद्रदानी

गुणज्ञता 305 15

## कद्रु

कद्रु 787 11 ⇨

## कद्रुज

नाग 778 12

## कद्रुपुत्री

नाग स्त्री 778 13

## कद्रुशुत

नाग 778.12

## कण

कण 938 2  
देवोच्छिष्ट आहार 198 4

## कनक

गेहूँ 187 8  
घषा 14 15  
धतूरा 212 7  
पलाश 13.13  
स्यर्ण 95 4

## कनकटा

कनकटा 153 16 ⇨

## कनकटा [कनकटी]

कनकटा 153 16

## कनकना [कनकनी]

कनकना [कनकनी] (स्वर) 299 27  
धिङ्धिङा [धिङ्धिङी] 373 32

## कनकना [कनकनी] (स्वर)

कनकना [कनकनी] (स्वर) 299.27 ⇨

## कनकनाना

रोमाहित होना 382 14

## कनकनाना (परु)

सावधान होना 497 3

## कनकनापन

कनकनापन 299 12 ⇨

## कनकनाहट

कनकनापन 299 12  
धिरुधिराहट 373 7

## कनकप्रभ

शिव 767 1

## कनक शक्ति

स्कंद 773 50

## कनका

कणी 938 3

## कनकाथल

सुमेरु 17 17

## कनकी

कणी 938 3

## कन की उंगली

कनिष्ठिका 150 19

## कनकूत

आकलन कर्म 947 6

## कनक्तिंग रौड (अँ)

कनक्तिंग रौड (अँ) 1077 16 ⇨

## कनक्वान (अँ)

विद्युत सर्किट 102 5

## कनखजूरा

कनखजूरा 122 13 ⇨

## कनखजूरा

कीट सूची 122 12

## कनखियाना

धितवन चल करना 284 35  
तिरछी धितवन से देखना 284 36

## कनखी

तिरछी धितवन 284 6

नेत्र कोर 141 4

नेत्र मुद्रा 464 32

## कनछिदा [कनछिदी]

कनछिदा [कनछिदी] 798 42 ⇨

## कनछिदाई

कनछेदन संस्कार 798 16

## कनछेदन

कनछेदन संस्कार 798 16

## कनछेदन संस्कार

कनछेदन संस्कार 798.16 ⇨

## कनछेदन होना

कनछेदन होना 798 35 ⇨

## कनछेदी

कनछिदा [कनछिदी] 798 42

## कनटेनर

कनटेनर 1076 12 ⇨

## कनटेनर (अँ)

कनटेनर 1076 12

डिब्बा 676 1

## कनटोप

कनटोप 584 6 ⇨

## कनटोपा

कनटोप 584 6

## कनईरुड मिल्क (अँ)

सघन दूध 193 6

## कनपटी

कनपटी 140 14 ⇨

## कनकर्म करना

संपुष्ट करना 337 13

## कनकर्रेशन (अँ)

संपुष्टि 337 8

## कनकर्रुई (अँ)

संपुष्ट 337 25

## कनकुक्या

धर्म दीक्षक 742 26

## कनकुक्या [कनकुक्या]

धर्म दीक्षक 742 26

धर्म दीक्षित 742 25

## कनफुसका [कनफुसकी]

चुगलखोर 843 26

## कनफुसकी

उकसाया 499 4

कानाफूसी 435 4

चुगलखोरी 843 11

## कनफ्रेशन

कनफ्रेशन 751 19 ⇨

## कनफ्रेशन (अँ)

कनफ्रेशन 751 19

## कनफ्रेशनल

कनफ्रेशनल 745.23 ⇨

## कनफ्रेशनल (अँ)

कनफ्रेशनल 745 23

## कनफ्रेशन श्रौता

कनफेसर 744 31

## कनफेसर

कनफेसर 744 31 ⇨

## कनफेसर (अँ)

कनफेसर 744 31

## कनबतिया

कानाबाती 435 5

## कनबिधा [कनबिधी]

कनछिदा [कनछिदी] 798 42

## कनमैल

कर्ण मल 215 8

## कनवीसा

परधेयता 122 38

## कनवीसी

परधेयती 722 39

## कनवाय (अँ)

नीसैनिक बेड़ा 1072 52

यान समूह 1088 6

## कनयास

कैनवस चित्र 404 5

## कनयिक्ट (अँ)

सिद्धदोष 877 23

## कनयिक्ट करना

सिद्धदोष पाना 877.19

## कनयीन करना

संयोजित करना 693.8

## कनवीनर (अँ)

आयोजक 655 19

सयोजक 693 15

## कनवीनिग (अँ)

सयोजन 693 4

## कनवेअर बैल्ट (अँ)

कनवेयर बैल्ट 1076 27

## कनवेयर बैल्ट

कनवेयर बैल्ट 1076.27 ⇨

## कनवेरट (अँ)

ईसाई मठ 745 10

शिक्षालय सूची 321.11

## कनवेशन (अँ)

सभा 694 1

## कनवेक्टर

कनवेक्टर 85 30 ⇨

कनवेक्टर 104 13 ⇨

## कनवेक्टर (अँ)

कनवेक्टर 85 30

कनवेक्टर 104 13

## कनवोक्शन (अँ)

दीक्षात समारोह 321 7

विद्यात संस्कार 798 24

## कनसलाई

कीट सूची 122 12

## कनसाइनर (अँ)

प्रेषक 1054 16

## कनसाइनी (अँ)

प्रेषिती 1054 15

## कनसुरा [कनसुरी]

बेसुरा [बेसुरी] 459.39

## कनसैट्रिक (अँ)

सकेद्रीय 971 25

## कनस्तर

कनस्तर 679 40 ⇨

डोल सूची 679 34

## कनस्तरी

कनस्तर 679 40

## कनहा

आकलन कर्ता 947.22

## कनहार

कर्णधार 1080 19

## कनहार्यी

कर्ण धारण 1080 6

## कनागत

पितृ पक्ष 45 4

## कनात

कनात 605 8 ⇨

## कनाल

समुद्री नहर 24 12

## कनासी

रेती 559.33

## कनिका

कनिष्ठिका 150 19

## कनियाना

घुपघाप पलायन करना 916.11

लज्जा प्रदर्शन करना 845 7

## कनिष्ठ

अत्यल्प 942.16

कनिष्ठ 229.26 ⇨

सूक्ष्मतम 980.22

## कनिष्ठ [कनिष्ठा]

अनुज [अनुजा] 723.25

## कनिष्ठक

कनिष्ठ 229 26

## कनिष्ठता

अनुजता 723.11

## कनिष्ठा

छोटा भाई. पत्नी 724.27

## कनिष्ठिका

कनिष्ठिका 150.19 ⇨

## कनी

कण 938.2

कणी 938.3

गॉस 938.12  
 ज्वेल बीयरिंग 1077 25  
 बालिका 230.24  
 बूँद 88 11  
**कनीज़**  
 आवासीय सेविका 651 5  
**कनीज**  
 दासी 651.10  
**कनीनक**  
 किशोर 230 28  
 लड़का 230 25  
**कनीनका**  
 किशोरी 230 29  
**कनीनिका**  
 कनिष्ठिका 150 19  
 कोरिया 141 8  
 नेत्र पुतली 141 5  
**कनीयता**  
 अत्यल्पता 942 2  
**कनीयस**  
 अत्यल्प 942 16  
 अल्पतर 942.14  
 तौबा 94 8  
**कनू (अँ)**  
 नौका सूची 1072 3  
 सारंगगा 1072 25  
**कनेखी**  
 तिरछी धितवन 294 6  
**कनेठा [कनेठी]**  
 काणा [काणी] 164 9  
 भेगा [भेंगी] 164 11  
**कनेठी**  
 कान उमेठी 870 5  
**कनेर**  
 कनेर 14.3 ⇨  
**कनेठी**  
 अनुशासन 893 4  
 कान उमेठी 870 5  
**कनोहू (अ)**  
 छोटा भाई पत्नी 724.27  
**कनीठा**  
 किनारा 1000.10  
 कोना 607.6  
 स्वजन 725.1  
**कनीठा [कनीठी]**  
 कृतज्ञ 833.8  
**कनीठा [कनीठी]**  
 विकलांग 153 15  
**कनीठापन**  
 विकलांगता 153 2  
**कनीथिया**  
 कृतज्ञ 833.8  
**कनक**  
 कर्नाटक 28 19  
 भारत: राष्ट्रभाषा सूची 421.4  
**कना**  
 किनारा 1000.10

**कनार्थवैस (अँ)**  
 मोनानुकूलता 861 10  
**कभास**  
 जल्लाद 87: 17  
**कझी**  
 कझी 571.33 ⇨  
 किनारा 1000 10  
 कोर 1000 2  
 पलटा 681 10  
 पल्लवाकुर 113 3  
 पेड़ पीधा क्रलम 113 7  
 बरतन मुँह 680 22  
**कझी काटना**  
 कामचोरी करना 490 7  
 चुपचाप पलायन करना 916 11  
**कझी दबाना**  
 नियंत्रित करना 899 20  
**कन्यका**  
 अविवाहित पुत्री 234 10  
 कुमारी 234 17  
 लड़की 230 26  
**कन्यस**  
 सब से छोटा भाई 723 13  
**कन्या**  
 अविवाहित पुत्री 234 10  
 कुमारी 234 17  
 दुर्गा 776 7  
 पुत्री 718 10  
 बड़ी इलायची 281 10  
 मरियम 791 19  
 लड़की 230 26  
 वधू 801 11  
 स्थयवरा 799 19  
**कन्या कुमारी**  
 दुर्गा 776 7  
**कन्या: कौमार्य हरण**  
 पैशाच विवाह 799 25  
**कन्या ऋय**  
 आसुर विवाह 799 22  
**कन्यागत**  
 पितृ पक्ष 45 4  
**कन्या जन्म**  
 पुत्री प्राप्ति 239 8  
**कन्यादान**  
 कन्यादान 800.6 ⇨  
 पुत्री विवाह 799 7  
**कन्या दान**  
 ब्राह्म विवाह 799 27  
**कन्यादानी**  
 वधू पक्ष 801.2  
**कन्या दिखाई**  
 कन्या दिखाई 799.32 ⇨  
**कन्याधन**  
 कन्याधन 802.1 ⇨  
**कन्या पक्ष**  
 वधू पक्ष 801.2  
**कन्या: पति**  
 दामाद 724 22

**कन्यापति**  
 दामाद 724.22  
**कन्यापुर**  
 जनानखाना 614 20  
**कन्या पूजन**  
 गौरी पूजन 800 12  
**कन्या पूजा**  
 गौरी पूजन 800 12  
**कन्या प्राप्ति**  
 पुत्री प्राप्ति 239 8  
**कन्या भूल्य**  
 कन्या शुल्क 802 2  
**कन्या रत्न**  
 पुत्री 718 10  
**कन्या राशि**  
 राशि सूची 4 8  
**कन्यारासी**  
 अत्याचार सहन कर्ता 835 14  
**कन्या लाभ**  
 पुत्री प्राप्ति 239 8  
**कन्या विजय**  
 राक्षस विवाह 799 28  
**कन्या विदा**  
 शिदायगी 800 31  
**कन्यावेदी**  
 दामाद 724 22  
**कन्या शुल्क**  
 कन्या शुल्क 802 2 ⇨  
**कन्या शुल्क विवाह**  
 आर्ष विवाह 799 21  
 आसुर विवाह 799 22  
**कन्या चुकुमारी**  
 मरियम 791 19  
 सोता 770 66  
**कन्या हरण**  
 कन्या हरण 799 20 ⇨  
**कन्युष**  
 पाणि 150 1  
**कन्वीनर (अँ)**  
 सभ्य सचालक 694 20  
**कन्हार्ई**  
 कृष्ण 771 1  
**कन्नेया**  
 कृष्ण 771 1  
**कप**  
 कप 857 16 ⇨  
**कप (अँ)**  
 कप 857 16  
 धाय काफ़ी बरतन सूची 680 20  
 प्याला 684 12  
 मद्यपान पात्र 209.38  
**कपट**  
 कुटिलता 818 3  
 छल 827.7  
 पाखंड 825 2  
 विश्वासघात 827 4  
**कपट आय**  
 कपट आय 643.6 ⇨

**कपट आबरण**  
 छद्म आबरण 824 10  
**कपट करना**  
 कूटकरण करना 98.10  
**कपट कृति**  
 कूट कृति 98 7  
**कपट जाल**  
 कूट पाश 1013.9  
**कपटता**  
 कुटिलता 818 3  
**कपट तापस**  
 नकली साधु 790 18  
**कपट द्यूत**  
 द्यूत कपट 481 6  
**कपट न करना**  
 छल न करना 815 4  
**कपट निंदा**  
 व्याज निंदा 843 3  
**कपट पासा**  
 कपट पासा 479 24 ⇨  
**कपटपूर्ण**  
 छलपूर्ण 827 22  
 रहस्यपूर्ण 823 13  
**कपटपूर्ण सरल**  
 कपटपूर्ण सरल 818.6 ⇨  
**कपटपूर्ण सरलता**  
 कपटपूर्ण सरलता 818.2 ⇨  
**कपट मुद्रा**  
 कूट मुद्रा 98 8  
**कपट युक्ति**  
 कूट युक्ति 819 8  
**कपट योजना**  
 षडयंत्र 827 8  
**कपट रचना**  
 छद्म रचना 824 11  
**कपट लेख**  
 जाली दस्तावेज़ 412 21  
**कपट वेश**  
 छद्म वेश 824 12  
 छद्म वेश 589 16  
**कपट वेशी**  
 छद्म वेशी 589 17  
**कपट स्तुति**  
 व्याज प्रशंसा 841.3  
**कपटहीन**  
 छलहीन 815 8  
**कपटहीनता**  
 छलहीनता 815 3  
**कपटा**  
 काकरोष 122 14  
**कपटाधरण**  
 छल 827.7  
**कपटी**  
 कुटिल 818.7  
 कूटकार 98 15  
 छली 827.24  
 दीवबाज़ 819.19  
 धर्म पाखंडी 825.4

## कपटी जुआ

विश्वासघाती 827 19  
कपटी जुआ  
घूत कपट 481 6  
कपटी जुआरी  
कपटी घूतकर 481 11  
कपटी घूतकर  
कपटी घूतकर 481 11 ⇨  
कपड़  
यस्त्रीय 579 24  
कपड़कट  
तबू 600 19  
कपड़छन  
कपड़छनाई 1009 9  
कपड़छनाई  
कपड़छनाई 1009 9 ⇨  
कपड़छान  
कपड़छनाई 1009 9  
कपड़धुलि  
क्रेप 580 7  
कपड़ा  
परिधान 583.:  
पोछा 218 16  
वस्त्र 579 1  
कपड़ा उद्योग  
बुनाई उद्योग 576 15  
कपड़ा: किनारा  
कत्री 571.33  
कपड़ा: खूँटी  
दीवार खूँटी 1016 17  
कपड़ा: चौड़ाई  
कपड़ा चौड़ाई 965 5 ⇨  
कपड़ा: धान  
कपड़ा धान 579 22 ⇨  
कपड़ा: धैला  
झोला 673 16  
कपड़ा: पट्टी  
पट्टी 571 1  
कपड़ा बुनकर  
कपड़ा बुनकर 576 5 ⇨  
कपड़ा बुनना  
कपड़ा बुनना 576.25 ⇨  
कपड़ा बुनाई  
कपड़ा बुनाई 576 4 ⇨  
बुनाई विधि सूची 576 3  
कपड़ा बुनावट  
कपड़ा बुनावट 576 11 ⇨  
कपड़ा: मापी  
कपड़ा मापी 959 4 ⇨  
कपड़ा मिल  
कपड़ा मिल 576 16 ⇨  
कपड़ा रैगाई  
रैगरेजी 578 1  
कपड़ा: लंबाई  
कपड़ा लंबाई 965 3 ⇨  
कपड़ा लत्ता  
परिधान सामग्री 583.2  
कपड़ा: शिकन  
कपड़ा शिकन 975.8 ⇨

कपड़ा: संदूक  
परिधान संदूक 676 17  
कपड़ा: साबुन  
कपड़ा साबुन 220.29 ⇨  
कपड़े  
परिधान सामग्री 583.2  
कपड़े उतारना  
नग्न होना 590 13  
परिधान उतारना 590 14  
कपड़े कूटना  
कपड़े कूटना 220 34 ⇨  
कपड़े धुलाई  
वस्त्र प्रक्षालन 220 4  
कपड़े निचोड़ना  
निचोड़ना 220 36  
कपड़े रैगना  
सन्यास लेना 233 9  
कपड़े लत्ते  
परिधान सामग्री 583 2  
कपड़े सुखाना  
कपड़े सुखाना 220 38 ⇨  
कपड़ा में न समाना  
अति आनदित होना 382 12  
कपर्द  
कौड़ी 124 15  
जूड़ा बँधी जटा 137 9  
शिव जटा 767 7  
कपर्दक  
कौड़ी 479 26  
शिव जटा 767 7  
कपर्दिका  
कौड़ी 124 15  
कौड़ी 629 10  
जूड़ा बँधी जटा 137 9  
कपर्दिनी  
दुर्गा 776 7  
कपर्दी  
शिव 767 1  
कपाट  
अलमारी 671 1  
आहार अलमारी 671 10  
कपाट 609 5 ⇨  
कपाट पल्ला 609 11  
कपाट खटखटा  
खटखटा 609 12  
कपाट: दिल्ली  
कपाट: दिल्ली 609 10 ⇨  
कपाट: पल्ला  
कपाट पल्ला 609 11 ⇨  
कपाल  
अडा शल्क 116 7  
कच्छप पृष्ठ 134 19  
कपाल 133 6 ⇨  
कपालास्थि कटोरा 683 5  
कमडलु 642 13  
ढक्कन 675 6  
प्रारम्भ लेख 260 6  
मृद्भांडार 77 6

कपाल खंड  
कपालास्थि कटोरा 683 5  
कपालधारी संन्यासी  
कपालधारी संन्यासी 790 13 ⇨  
कपाल नालिका  
चरखा तकला 562 11  
कपालपाणि  
शिव 767 1  
कपाल माला  
मुंडमाला 228 37  
कपाल मालिनी  
दुर्गा 776 7  
कपाल माली  
शिव 767 1  
कपालस्थ पिसा चावल  
पुरोडाश 753 28  
कपालास्त्र  
ढाल 921 1  
कपालास्थि कटोरा  
कपालास्थि कटोरा 683.5 ⇨  
कपालिका  
दंत मल 215 11  
कपाली  
शिव 767 1  
कपास  
कपास 568.4 ⇨  
कपास ओटाई: चरखी  
ओटनी 562 1  
कपास परिशुद्धन  
ओटाई 567 1  
कपास: बीज  
बिनीला 196.18  
कपास: रूई  
रूई 568 3  
कपास वस्त्र  
कपास वस्त्र 579.11 ⇨  
कपासी  
अति श्वेत 289 67  
तलुयुक्त 569 29  
सूती 568 15  
कपासीय  
सूती 568 15  
कपिजल  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
घातक 126.39  
तीतर 126.43  
पीला 289.54  
सूर्य 8 1  
कपि  
बंदर 127.86  
वानर (मरुत) 781.5  
विष्णु 768 1  
हनुमान 781 19  
कपिज  
शिलाजीत 84.12  
कपि तैल  
शिलाजीत 84 12

कपिध्वज  
अर्जुन 771.36  
कपिनी  
वानर स्त्री 781.6  
कपि मानव  
अधिवानर 127.90  
जावा मानव 128 6  
कपिरथ  
राम 770.1  
कपिल  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
गधर्व सूची 778.5  
दानव सूची 783.13  
ब्रह्मा पुत्र सूची 766 10  
यक्ष सूची 779.3  
विष्णु 768 1  
विष्णु चौबीस अवतार सूची 769 9  
कपिल [कपिला]  
कत्थई 289 36  
कपिल मुनि (पूर्वजन्म: नाम)  
गीतम बुद्ध 793 1  
कपिलांजन  
शिव 767 1  
कपिला  
दिग्गज पत्नी सूची 780 4  
रेणुका 274 25  
शीशम 13 22  
कपिलाघात  
विष्णु 768 1  
शिव 767 1  
कपिला शिरापा  
शीशम 13.22  
कपिलाश्व  
इंद्र 773 5  
कपिला [कपिशा]  
कत्थई 289.36  
कपिशक  
लाल वाइन 209 16  
कपिशा  
राम 209.14  
कपिशाक  
पात गोभी 189.16  
कपींद्र  
जाबयान 781.10  
विष्णु 768.1  
सुग्रीव 781.17  
हनुमान 781 19  
कपीतन  
पीपल 13 14  
शिरिष 13.21  
कपीय  
वानरीय 781.21  
कपीश  
सुग्रीव 781 17  
हनुमान 781.19  
कपूत  
कपूत 718.4 ⇨

<b>कपूर</b>	<b>कफ (दे.)</b>	<b>कब (वह मेरी कब चुनता है?)</b>	जाति 730 1
कपूर 274 14 ⇨	त्रिदोष सूची 215 13	कभी नहीं 72 12	दल 691 1
<b>कपूर-केसर-चंदन</b>	<b>कफन</b>	<b>कबक</b>	नूजाति 730 14
अरगजा 274 13	कफन 254 4	घकोर 126 33	पत्नी 803 6
<b>कपूरा</b>	<b>कफन</b>	<b>कबड्डी</b>	वंश 727 1
अडकोरा 152 11	कफन 254 5 ⇨	कबड्डी 477 1 ⇨	समूह 690 1
कपूरे 206 28	<b>कफन कार्ठी</b>	<b>कब तक</b>	सार्थ 657. 'J
<b>कपूरी</b>	मृतक संस्कार 253 1	कब तक 39 13 ⇨	<b>कबूतर</b>
अति श्वेत 289 67	<b>कफन को कौड़ी न होना</b>	<b>कबर</b>	कबूतर 126.16 ⇨
<b>कपूरे</b>	कगाल होना 627 12	वेणी 223 17	<b>कबूतरखाना</b>
कपूरे 206 28 ⇨	<b>कफन खसोट</b>	<b>कबरा [कबरी]</b>	कबूतरखाना 603.15 ⇨
<b>कपोत</b>	अति कृपण 639 27	धितकबरा [धितकबरी] 289 75	<b>कबूतर खाना</b>
कबूतर 126 16	कफन चोर 864 12	<b>कबरी</b>	कबूतरखाना 603 15
पक्षी 126 1	<b>कफन खसोटिया</b>	जूड़ा 223 14	<b>कबूतर: बोली</b>
<b>कपोतक</b>	कफन चोर 864 12	वेणी 223 17	गुटरूँ गूँ 298.13
फ्राखता 126 52	<b>कफन चोर</b>	<b>कबर्ड (औं)</b>	<b>कबूतरी</b>
<b>कपोत पाली</b>	कफन चोर 864 12	अलमारी 671 1	मादा कबूतर 126 17
कबूतरखाना 603 15	<b>कफन चोर</b>	आहार अलमारी 671 10	<b>कबूलना</b>
<b>कपोत ब्रत</b>	कफन चोर 864 12 ⇨	<b>कब लीं</b>	अपराध स्वीकार करना 876.23
अत्याचार सहन 835 4	<b>कफन दफन</b>	कब तक 39 13	<b>कबूलियत</b>
<b>कपोतांजन</b>	दफनाई 253 12	<b>कबा</b>	पसदागी 400 3
सीसा 94 14	मृतक संस्कार 253 1	चोगा 585 22	<b>कबूली</b>
<b>कपोतारि</b>	<b>कफन में लिपटा शव</b>	<b>कबाब</b>	अगीकरण 1002 3
गिद्ध 126 26	जनाजा 254 6	अनुपयोगी 525 8	अपराध स्वीकृति 876.9
<b>कपोती</b>	<b>कफनाना</b>	रही 526 13	<b>कबाज</b>
फ्राखता 126 52	मृतक संस्कार करना 253 29	<b>कबाड (बोलबाल)</b>	कोष्ठबद्धता 163.30
मादा कबूतर 126 17	<b>कफनी</b>	आहार अलमारी 671 10	<b>कबाजा</b>
सुंदर स्त्री 157 2	साधु चोगा 585 23	<b>कबाडिया</b>	अधिग्रहण 635 1
<b>कपोल</b>	साधु देश 589 10	रही व्यापारी 526 14	अधिभोग 622 1
कपोल 140.15 ⇨	<b>कफपा</b>	<b>कबाडी</b>	आधिपत्य 899 8
<b>कपोल अस्थि</b>	तलवा 150 10	रही व्यापारी 526 14	आवास आधिपत्य 622 8
कपोल अस्थि 133 7 ⇨	<b>कफ रोग</b>	<b>कबाडी वाला</b>	कबाजा 609 13 ⇨
<b>कपोल कल्पना</b>	खाँसी 163 14	रही व्यापारी 526 14	तलवार मूठ 924 11
कथा कृति 450 3	<b>कफ लिक्स</b>	<b>कबाब</b>	नियंत्रण 899 10
गप 440 7	कफ लिक्स 571 16 ⇨	कबाब 206.35 ⇨	बंदीकरण 868 1
<b>कपोल कल्पित</b>	<b>कफ लिक्स (औं)</b>	<b>कबाब चीनी</b>	मूठ 596 24
कपोल कल्पित 308 19 ⇨	कफ लिक्स 571 16	शीतल चीनी 281 31	<b>कबाजा</b>
<b>कपोल: गड्ढा</b>	<b>कफरस</b>	<b>कबाब: छड़</b>	वश 899 13
कपोल गड्ढा 140 16	कारागार 868 21	सीख 560.8	<b>कबाजा करना</b>
<b>कपोल: गड्ढा</b>	पिंजरा 603 17	<b>कबल्य होना</b>	अधिग्रहण करना 835 10
कपोल: गड्ढा 140 16 ⇨	<b>कफांतक</b>	अति क्रुद्ध होना 373 16	आधिपत्य करना 899 19
<b>कपोलास्थि</b>	बबूल 13 15	<b>कबाबी</b>	<b>कबाजा दकाल</b>
कपोल अस्थि 133 7	<b>कफारि</b>	सामिबाहारी 205 4	आधिपत्य 899 8
<b>कप्तान</b>	सोठ 281 35	<b>कबाबाना</b>	<b>कबाजादार</b>
कप्तान 935.7 ⇨	<b>कफालत</b>	अधिभोग पत्र 622 4	आवास आधिपत्यधारी 622.9
टोली नेता 475 20	ज़मानत 869.2	दान पत्र 641.4	<b>कबाजादारी</b>
दल नायक 852.6	<b>कफोणि</b>	बिक्री दस्तावेज़ 412 20	आवास आधिपत्य 622 8
पोताध्यक्ष 1080 16	कुहनी 149 7	<b>कबाबाला नवीन</b>	<b>कबाजे में लेना</b>
<b>कप्तान कबा</b>	<b>कबांध</b>	*दस्तावेज़ लेखक 412 24	अधिग्रहण करना 835 10
कप्तान कबा 1073.38 ⇨	केतु 6.5	<b>कबीर</b>	<b>कबा</b>
<b>कप्तानी</b>	धूमकेतु 3.9	महान 839.8	कबा 254.18 ⇨
दल नायकता 852.5	पेट 148.1	वयोवृद्ध 232.11	रोज़ा 745.19
<b>कफ</b>	मेघ 55 1	होली गीत 57 33	<b>कबा (दे.)</b>
कफ 215.16 ⇨	राक्षस सूची 784.4	<b>कबीर बड़</b>	मरुबरा 255.7
<b>कफ</b>	<b>कबा</b>	अक्षय वट 13 17	<b>कबा का अज़ाब</b>
पाणि पेट 150.2	कबा 36.23 ⇨	<b>कबीला</b>	कबा में मिलने वाला पाप कष्ट 280.13
<b>कफ (औं)</b>	कबा तक 39.13	<b>कबीला</b>	<b>कबागाह</b>
आस्तीन: कफ 585.78		जनता 883 5	कबािस्तान 254.16

## करुण पत्थर

### करुण पत्थर

करुण पत्थर 254 19 ⇨

### करुण मे पाँव होना

मरणासन्न होना 249 21

### करुण मे पैर होना

जर्जर वृद्ध होना 232 8

### करुण मे प्रश्न कर्ता

नकीरेन 256 10

### करुण मे मिलने वाला पाप कष्ट

कष्ट मे मिलने वाला पाप कष्ट 260 13 ⇨

### करुण लेख

करुण लेख 254 20 ⇨

### करुण लेख

करुण लेख 254 20

### करुनिस्तान

कश्मिस्तान 254 16 ⇨

### कभी

अनिकट भविष्य मे 36 36

एकदा 72 6

कभी 36 24 ⇨

सम्भयत 68 19

सुदूर भूत मे 36 32

### कभी और

भिन्न काल मे 60 15

### कभी कभार

कभी कभी 36 25

### कभी कभी

अल्पदा 72 10

असामान्यत 312 19

कभी कभी 36 25 ⇨

दुर्लभत 942 25

### कभी कभी होना

अनियमित होना 71 7

### कभी न कभी

अनिकट भविष्य मे 36 36

### कभी न मिलना

समातर होना 1026 6

### कभी नहीं

असम्भवत 68 20

अस्वीकृति उक्ति सूची 338 50

कभी नहीं 72 12 ⇨

सन्निश्चय नहीं 338 53

### कभी पहले

सुदूर भूत मे 36 32

### कर्मगर

अस्थि वैद्य 174 9

### कर्मजल

कर्मजलु 642 13

### कर्मजली

धर्म पाखंडी 825 4

साधु 790 16

### कर्मजलु

कर्मजलु 642 13 ⇨

भिक्षा भांड सूची 642 12

### कर्मजलुधर

ब्रह्मा 766 1

शिव 767 1

### कमंद

कमंद 613 14 ⇨

फदा 572 8

फेक फदा 1013 10

### कम

अपर्याप्त 942 17

अप्रतिष्ठित 850 5

अल्प 942 13

दुर्लभ 942 19

नगण्य 853 10

न्यूनाशीय 939 15

मदा [मदी] 664 33

### कमअकूल

मदधी 302 8

### कमअकूली

मूर्खता 302 1

### कम अस्था

निकृष्ट 314 5

### कम अधिक

अल्पाधिक 941 9

### कमअसल

वर्ण सकर 731 40

### कमइत्त्य

अल्पज्ञ 306 17

### कम उन्न

अल्प आयु 229 4

### कमउन्न

अवयस्क 229 22

### कम ऊँचा

अत्योच्च 982 9

ठिंगना 154 18

### कम ऊँचाई

अत्योच्चता 982 2

### कम कम

अल्पत 942 23

### कमकर

श्रमिक 651 19

### कम करना

कम करना 980 13 ⇨

घटाना करना 954 12

### कमकस

कामघोर 490 10

### कम क्लीमती

अल्पमूल्य 664 32

### कमस्वर्ध

मितव्ययी 644 23

### कम खर्चीला [कम खर्चीली]

अव्ययसाध्य 644 21

### कम खाना

कम खाना 182 12 ⇨

### कम खिला [कम खिली]

अर्ध प्रस्फुटित 119 11

### कमख्याब

कमख्याब 580 5 ⇨

### कम गरम

अल्प उष्ण 104 21

### कम गहरा [कम गहरी]

उथला [उथली] 984 8

### कम गहराई

उथलापन 984 3

### कमगो

अवाचाल 429 26

### कम धी तेल में भुरजाई

भुरजाई 195 29

### कमघी

कमघी 923 1 ⇨

ढोल डग्गा 461 96

स्ट्रिक्ट 174 10

### कमजार्फ

अधम 840 4

### कमजार्फी

अधमता 840 1

### कमजोर

अदृढ़ 159 16

अपोषण ग्रस्त 179 23

अप्रगाढ़ 80 8

अप्रबल 488 14

अबलिष्ठ 159 12

आरोग्योन्मुख 171 22

क्षमताहीन 488 15

क्षीणकाय 159 13

डगमगाता [डगमगाली] 1084 46

दमित 911 14

धैर्यहीन 395 27

प्रभावहीन 511 18

मासहीन 132 19

रुधिरहीन 131 18

विघलनशील 501 12

शक्तिहीन 488 10

### कमजोर पड़ना

धैर्य भंग होना 395 18

### कमजोर पड़ना

प्रतिरोध क्षीण होना 915 5

### कमजोरी

अदृढ़ता 159 6

अबलिष्ठता 159 3

क्षमताहीनता 488 4

धैर्यहीनता 395 10

नपुसकता 238 4

रोगग्रस्तता 162 1

शक्तिहीनता 488 1

सुखडी 163 36

### कम ज़्यादा

अल्पाधिक 941 9

### कमठा

धनुष 926 8

### कमठी

स्ट्रिक्ट 174 10

### कमत

अल्पतर 942 14

निकृष्ट 314 5

### कमतरी

निकृष्टतरता 314 2

धिकार 536 1

### कमतरीन

अल्पतम 942 15

निकृष्टतम 314 7

सूक्ष्मतम 980 22

### कमतरीनी

निकृष्टतमता 314 3

### कमतवज्जही

असायधानी 498 1

### कमतार्ई

अपर्याप्तता 942 3

अभावग्रस्तता 627 2

अल्पता 942 1

दुर्लभता 942 5

### कमतली

अल्प 942 13

### कमतोला

कम तीलने वाला 962 4

### कम तील

कम तील 962 3 ⇨

### कम तीलना

कम तीलना 962 64 ⇨

### कम तीलने वाला

कम तीलने वाला 962 4 ⇨

### कम दाब क्षेत्र

निम्न दाब क्षेत्र 51 10

### कम दाम का

अल्पमूल्य 664 32

### कम दाम पर

अल्पमूल्यत 664 39

### कम दूर

निकट मे 31 9

### कम दूरी

निकटता 31 1

### कम देर में

शीघ्रत 496 13

### कमनसीब

दुर्भाग्यशाली 260 34

### कमनसीबी

दुर्भाग्य 260 18

### कम नस्ल का

कम नस्ल का 243 19 ⇨

### कमनीय

सुदर 157 7

### कमनीयता

सुदरता 157 1

सुडीलता 155 2

### कमनेत

धनुषधारी 930 13

### कम पढ़ा [कम पढ़ी]

अल्प शिक्षित 321 43

### कमबख्त

दुर्भाग्यशाली 260 34

### कमबख्ती

दुर्भाग्य 260 18

### कम बार

अल्पदा 72 10

### कम बोलना

वाचाल न होना 429 17

### कमबोला [कमबोली]

अवाचाल 429 26

**कमबोलापन**  
अवाधालता 429 6  
**कमभरा [कमभरी]**  
अर्धरिक्त 1005 8  
**कम भुनी रोटी**  
कम भुनी रोटी 202 15 ⇨  
**कम मीग**  
व्यापारिक मदी 664 13  
**कम मिलना**  
दुर्लभ होना 942 11  
**कम मूल्य**  
अल्पमूल्यता 664 12  
**कमयाब**  
दुर्लभ 942 19  
**कमर**  
कटि 147 7  
पीठ 147 8  
मध्य भाग 996 3  
**कमर कस कर**  
सत्रदत्तः 491 20  
**कमर कसना**  
युद्ध सत्रदत्त होना 907 36  
सत्रदत्त होना 491 8  
**कमर के बल**  
यित 486.27  
**कमर कोट**  
परकोटा कमर दीवार 604 17  
**कमर कोटा**  
परकोटा कमर दीवार 604 17  
**कमरख**  
कमरख 277.10 ⇨  
साग सब्जी सूची 189 4  
**कमरख (दे.)**  
कमरख 277 10  
**कमर दूटना**  
काया शिथिल होना 159.8  
**कमर दूटा**  
नपुंसक 238.18  
**कमर धैला**  
हैवरसक 673.4  
**कमर पेटी**  
कमर पेटी 571 5 ⇨  
नीली 672 8  
**कमरबंद**  
कमर पेटी 571.5  
कमरबंद 571.8 ⇨  
करघनी 228.7  
शस्त्रधारी 930 6  
सत्रदत्त 491.16  
**कमरबंदी**  
शस्त्र धारण 930.1  
**कमर सीधी करना**  
विश्राम करना 494.19  
**कम रहना**  
अपर्याप्त रहना 942.9  
**कमरा**  
कमरा 614.1 ⇨  
स्टेट रूम 1073.39

**कमरिया**  
कटि 147 7  
**कम तंबा**  
ठिंगना 154 .8  
**कमल**  
उपवन पुष्प सूची 14 2  
कमल 14 4 ⇨  
दाहिना फुफ्फुस 146 3  
नेत्र पुतली 141 5  
पाणि 150 1  
पीलिया 163 37  
ब्रह्मा 766 1  
मदिर शिखर 611 2  
मूत्राशय 152 6  
लक्ष्मी आसन 775 4  
सारस 126 74  
**कमल कंद**  
कमल मूल 112 14  
**कमल ककड़ी**  
कमल ककड़ी 189 11 ⇨  
साग सब्जी सूची 189 4  
**कमल कोश**  
कमल कोश 112 8 ⇨  
**कमल गट्टा**  
कमल कोश 112 8  
**कमल गर्भ**  
कमल कोश 112 8  
**कमल छता**  
कमल कोश 112 8  
**कमलज**  
ब्रह्मा 766 1  
**कमलनयन**  
कमलनयन 158 16 ⇨  
कृष्ण 771 1  
राम 770 1  
विष्णु 768 1  
**कमल नयन**  
सुंदर नयन 158 4  
**कमलनयना**  
कमलनयना 158 17 ⇨  
**कमलनयनी**  
कमलनयना 158 17  
**कमलनाभि**  
विष्णु 768 1  
**कमल नाल**  
कमल ककड़ी 189.11  
**कमलनेत्र**  
कमलनयन 158 16  
**कमल पाणि**  
कमल पाणि 158.9 ⇨  
**कमल बंधु**  
सूर्य 8 1  
**कमलबाई**  
पीलिया 163 37  
**कमलमुख [कमलमुखी]**  
सुमुख [सुमुखी] 158 12  
**कमल मूल**  
कमल मूल 112.14 ⇨

**कमल बन**  
कमल सरोवर 18 3  
**कमल सर**  
कमल सरोवर 18 3  
**कमल सरोवर**  
कमल सरोवर 18 3 ⇨  
**कमला**  
लक्ष्मी 775 1  
**कमलाकर**  
कमल सरोवर 18 3  
**कमलाप्रजा**  
दरिद्रा 775 6  
**कमला नींबू**  
नारंगी 190 22  
**कमला पति**  
विष्णु 768 1  
**कमलालया**  
लक्ष्मी 775 1  
**कमलासन**  
देवता आसन 595 7  
पद्मासन 756 20  
पलाश 13 13  
ब्रह्मा 766 1  
**कमलासना**  
लक्ष्मी 775 1  
**कमलिनी**  
उपवन पुष्प सूची 14 2  
कमल 14 4  
कमल ककड़ी 189 11  
कमल सरोवर 18 3  
कमलिनी 14 8 ⇨  
**कमलिनी कांत**  
सूर्य 8 1  
**कमलिनी कुल बल्सम**  
सूर्य 8 1  
**कमली**  
कबल 593 6  
**कमलक्षण**  
शिय 767 1  
**कमलेशः**  
विष्णु 768 1  
**कमलेश्वर**  
विष्णु 768 1  
**कम समय**  
अल्प काल 38 4  
**कमसरियट**  
सेना रसद विभाग 656 12  
**कमसिन**  
अनुभवहीन सरल 817 9  
अययस्क 229 22  
कोमार्ययुक्त 234 15  
दाकी मूँछ हीन 136 9  
पापहीन 813 9  
बालयल 230 33  
सरल 817 8  
**कमसिनी**  
आरंभिक अवस्था सूची 994.23  
पापहीनता 813.1

**बाल अवस्था** 230 21  
**बालवत्ता** 230 22  
**कमसुखन**  
अयाधाल 429 26  
**कम से अधिक क्रम**  
आरोह क्रम 991 3  
**कमहिम्मत**  
कापुरुष 395 29  
**कमहिम्मती**  
कापुरुषता 395 12  
कापुरुषतापूर्ण 395 28  
**कमहैसियत**  
अप्रतिष्ठित 850 5  
असमृद्ध 627 16  
**कम होना**  
कम होना 980 12 ⇨  
प्रभाव कम होना 511 11  
**कम होना: क्रिया**  
कम होना क्रिया 980 3 ⇨  
**कमांडर**  
कमांडर 935 8 ⇨  
**कमांडर (अँ)**  
कमांडर 935 8  
पोताधक्ष 1080 16  
**कमांडर इन चीफ**  
कमांडर इन चीफ 935 11 ⇨  
**कमांडर इन चीफ (अँ)**  
कमांडर इन चीफ 935 11  
**कमांडर पीत**  
प्लैगशिप (अँ) 1072 48  
**कमांडैट**  
कमांडैट 935 10 ⇨  
**कमांडैट (अँ)**  
कमांडैट 935 10  
**कमांडो**  
कमांडो 934 14 ⇨  
**कमांडो (अँ)**  
कमांडो 934 14  
**कमाइच**  
छोटी कमानी 1076 25  
**कमाई**  
अर्जन 648 1  
अजित आय 643 4  
आजीविका 650 1  
आय 643 1  
चर्म परिष्करण 582 24  
मरम्मत कर्म-538.2  
लाभ 646 2  
शौचालय कर्म 216.23  
**कमाक**  
अर्जक 648 9  
**कमान**  
कमानचा 461 93  
कमानी 1076 24  
घाप 972 9  
डी 956.6  
धनुष 926 8  
प्रबंधालय 654 11

## कमान अपत्सर

मेहराब 611 29  
सचालन 655 1  
सर्वाध्य सत्ता 899 4  
**कमान अपत्सर**  
कमाडर 935 8  
**कमान बड़ना**  
प्रतिष्ठा बड़ना 849 11  
**कमानघा**  
कमानघा 461 93 ⇨  
छोटी कमाना 1076 25  
धुनकी 562 2  
**कमानः तौत**  
धनुष प्रत्यसा 926 15  
**कमानदार**  
कमाडर 935 8  
नयघद्राकार 974 21  
**कमान पर जाना**  
युद्ध पर जाना 907 38  
**कमाना**  
अजित करना 648 4  
कृषि करना 548 33  
घर्म परिष्कार करना 582 30  
लाम कमाना 646 11  
**कमानिया**  
धनुषधारी 930 13  
नयघद्राकार 974 21  
**कमानी**  
कमची 923 1  
कमानघा 461 93  
कमाना 1076 24 ⇨  
कमाना स्त्रिग 1050 20  
धाप 972 9  
धनुष 928 8  
**कमानादा**  
नयघद्राकार 974 21  
**कमाना स्त्रिग**  
कमाना स्त्रिग 1050 20 ⇨  
**कमाने वाला**  
अर्जक 648 9  
**कमाया [कमाई]**  
अजित 648 8  
**कमाया बमड़ा**  
परिष्कृत घर्म 582 25  
**कमाल**  
करताब 506 7  
चमत्कार 379 4  
जादू 474 2  
पराकाष्ठा 534 3  
प्रवीणता 303 8  
विलक्षण यस्तु 312.6  
**कमाल का**  
पराकाष्ठात्मक 534 13  
विलक्षण 312 16  
**कमाद्युत**  
अर्जक 648 9  
**कमिटी (अँ)**  
समिति 692 20

**कमिशनर (अँ)**  
आयोग अध्यक्ष 692 10  
जनपद समूह प्रसासक 891.6  
**कमिशनरी (अँ)**  
जनपद समूह 34.7  
**कमी**  
अपर्याप्तता 942 3  
अभावग्रस्तता 627.2  
अल्पता 942 1  
असमृद्धि 627 1  
दुर्गुण 314 4  
दुर्भिक्ष 627 4  
दुर्लभता 942 5  
भूल 498 3  
रहितता 1007 1  
लक्ष्य चुक 931 12  
हानि 646 7  
**कमीज़**  
कमीज़ 585 30 ⇨  
**कमीज़ः कपड़ा**  
कमीज़ कपड़ा 579 16 ⇨  
**कमीन**  
अकुलीन 728 16  
अकुलीन जन 728 10  
अधम 840 4  
अधम जन 840 2  
दुर्जन 818 5  
निम्न जन 728 11  
निम्न वर्णीय 731 33  
**कमीनगाह**  
घात गड्ढा 252 25  
घात स्थान 914 2  
**कमीनगी**  
अधमता 840 1  
दुर्जनता 818 1  
**कमीना [कमीनी]**  
अधम 840 4  
दुर्जन 818 5  
**कमीनापन**  
अधमता 840 1  
दुर्जनता 818 1  
**कमीबेशी**  
अल्पाधिकता 941 4  
**कमीशंड आफिसर (अँ)**  
आयुक्त अधिकारी 652 7  
**कमीशंड औफिसर (अँ)**  
राजपत्रित सेनाधिकारी 935 4  
**कमीशन (अँ)**  
आयोग 692 9  
दलाल शुल्क 659 5  
**कमीशन एजेंट (अँ)**  
दलाल 659 2  
**कमीशन खाना**  
दलाली करना 659 15  
**कमुआ**  
नाव डौंड हत्था 596.27  
**कमेटी**  
समिति 692 20

**कमेका**  
झटकाव 169 3  
**कमेरा [कमेरी]**  
अर्जक 648 9  
कर्मी 650 25  
श्रमिक 651 19  
**कमेल**  
क्रसाई घर 206 42  
**कमेहरा**  
साँचा सूची 565 20  
**कमोड**  
कमोड 216 20 ⇨  
**कमोड (अँ)**  
कमोड 216 20  
**कमो बेरा**  
अल्पाधिक 941 9  
**कमोरी**  
छोटा घड़ा 679 2  
**कमोडिटी (अँ)**  
सामान 666 3  
**कम्मा [कम्मी]**  
कर्मी 650 25  
**कम्प्यून (अँ)**  
समूह भवन 602 17  
**कम्प्युनिकेटर (अँ)**  
संप्रेषक 428 20  
**कम्प्युनिकेशन (अँ)**  
पत्र 444 1  
सद्यार 444 34  
संप्रेषण 428 3  
ससूचना 441 6  
**कम्प्युनियन (अँ)**  
साम्यवाद 884 19  
**कम्प्युनिटी सेंटर (अँ)**  
कम्प्युनिटी हाल 695 3  
**कम्प्युनिटी हाल**  
कम्प्युनिटी हाल 695 3 ⇨  
**कम्प्युनिटी हाल (अँ)**  
कम्प्युनिटी हाल 695 3  
**कम्प्युनियन**  
कम्प्युनियन 751 20 ⇨  
**कम्प्युनियन (अँ)**  
कम्प्युनियन 751 20  
**कम्प्युनियन टेबल (अँ)**  
आल्टर 745 22  
**कम्प्युनीक (अँ)**  
ससूचना 441.6  
**कयाक (ऐस्किमो)**  
पनसुइया 1072 19  
**कयाधु**  
दैत्य स्त्री सूची 783.21  
प्रह्लाद माता 769 24  
**क्रयाम**  
आयासन 618.1  
निवासिता 616 1  
**क्रयामत**  
प्रलय 530 1  
महा संकट 909.2

**क्रयामत आना**  
प्रलय होना 530.6  
**क्रयामत की घड़ी**  
अतिम अवसर 70 7  
**क्रयामतः तुरही**  
क्रयामत. तुरही 530.5 ⇨  
**क्रयामतः दिन**  
क्रयामत दिन 530.4 ⇨  
**क्रयामतः रात**  
प्रलय रात्रि 530 3  
**क्रयामत होना**  
प्रलय होना 530 6  
**क्रयामती**  
उत्तम 313.13  
प्रलयकर 530 8  
विलक्षण 312 16  
**क्रयास**  
अदाज़ा 947 1  
अटकल 947 3  
कल्पना 308 1  
**करक**  
अस्थि पजर 133 5  
कमडलु 642 13  
**करंगण**  
मेला बाज़ार 663 10  
**करंजक**  
नर मुरगी 126 65  
**करंज खाना**  
मुरगी खाना 555 5  
**करंट (अँ)**  
चारज 101 7  
विद्युत करंट 102 2  
विद्युत तरंग 1040 8  
**करंट अकारंट (अँ)**  
घालू खाता 631 4  
**करंड**  
कारंडव 126 19  
तलवार 924 7  
बॉस बेट टोकरा 677 4  
सान पत्थर 559 35  
**करंडक**  
बॉस बेट टोकरा 677 4  
**करंडिका**  
बॉस बेट टोकरा 677.4  
**करंडी**  
बॉस बेट टोकरा 677.4  
रेशमी चादर 585.12  
**करंबन**  
खचन 406.27  
**करंबित**  
खचित 406 42  
**करंबी (अँ)**  
सिकका 629 1  
**कर**  
कर 647.2 ⇨  
पाणि 150.1  
सूँड 142.7  
हस्त 149.2



**कर अयोग्य**  
करेतर 647 41

**कर उगाही**  
कर संग्रह 647 33

**कर कंटक**  
नख 150 24

**करक**  
ओला 54 15  
करवा 679 12  
टीस 392 13  
नारियल खोपड़ी 112 5  
पाषाण 99 1  
वैमनस्य 706 10

**करकट**  
कूड़ा करकट 214 4

**करकता [करकती]**  
टीसता [टीसती] 392 29

**करकना**  
टीसना 392 19

**कर कमल**  
कमल पाणि 158 9

**कर करा के**  
कठिनत 519 31

**कर कलक्टर**  
कर संग्राहक 647 34

**कर के देखना**  
प्रयोग करना 307 10

**करखनदार**  
करखनदार 651 22 ⇨

**करखना**  
आवेश आना 371 5  
उत्तेजित होना 371 7  
क्रुद्ध होना 373 15

**करखा**  
करखा 549.8 ⇨  
क्रोध 373 1

**करगत**  
प्राप्त 637 8

**करगहनी**  
चीखट, शीर्ष काष्ठ 609 2

**करग्रह**  
कर संग्रह 647 33  
पाणिग्रहण 800 22

**कर ग्रहण**  
विवाहन 799 6

**करग्राही**  
कर संग्राहक 647 34

**करघा**  
करघा 562.15 ⇨

**करघा बुनाई**  
कपड़ा बुनाई 576 4

**कर बुनाना**  
कर बुनाना 865.17 ⇨

**कर चौर**  
कर चौर 865.2 ⇨

**कर चोरी**  
कर चोरी 865.1 ⇨

**करछल**  
कलछा 681 1

**करछा**  
कलछा 681 1

**करछी**  
कलछी 681 5

**करछुल**  
कलछी 681 5

**करछुला**  
कलछा 681 1

**करछुली**  
कलछी 681 5

**कर छूट प्राप्त**  
करमुक्त 647 42

**करज**  
नख 150 24

**करटक**  
कौआ 126 22

**करडी**  
तिहलन सूची 196 14

**करण**  
इन्द्रिय 268 1  
उपकरण 558 7  
करण 464 21 ⇨  
करण 505 1 ⇨  
कर्ण 771 47  
कर्मेन्द्रिय 268 7  
पचाग अग सूची 41 2  
वर्ग भुजा 968 35

**करण कारक**  
करण कारक 425 23 ⇨

**करणतः**  
कृतत 505 33

**करणी**  
पलटा 681 10

**करणीय**  
करणीय 505 18 ⇨  
सगत 438 6

**करणीय कर्म**  
कर्तव्य 895 4

**करणीयता**  
करणीयता 505 3 ⇨  
संगतता 438 1

**करतब**  
कठिन कार्य 519 2  
करतब 506 7 ⇨  
कार्य 506 1  
घमत्कार 379 4  
नट खेल 473 9  
प्रवीणता 303 8  
शोबदा 473 26

**करतब कर्ता**  
करतबी 506 10

**करतबबाज़**  
शोबदेबाज़ 474 41

**करतबबाज़ी**  
शोबदेबाज़ी 473 27

**करतबिया**  
करतबी 506 10  
शोबदेबाज़ 474 41

**करतबी**  
करतबी 506 10 ⇨  
परिश्रमी 493 9  
शोबदेबाज़ 474 41

**करतबी विमानन**  
हवाबाजी 1081 23

**करतल**  
पाणि पेट 150 2

**करतल ध्वनि**  
ताली ध्वनि 296 3

**करतली**  
पाणि पेट 150 2

**करता**  
गृहपति 235 5  
मुखिया 852 7

**करता धरता**  
गृहपति 235 5  
महा अध्यक्ष 652 16  
मुखिया 852 7

**करतार**  
ईश्वर 764 1  
कर्ता 505 23  
गृहपति 235 5  
ब्रह्मा 765 1  
मुखिया 852 7

**करताल**  
करताल 461 25 ⇨  
ताली 458 50

**करतालिका**  
ताली ध्वनि 296 3

**करताली**  
ताली 458 50  
ताली ध्वनि 296 3

**करतुल**  
दुष्कर्म 812 6

**करतुतिया**  
दुष्कर्म 812 15

**करतुती**  
दुष्कर्म 812 15

**करते करते**  
कालांतर मे 60 16

**करते कराते**  
कालांतर मे 60 16

**करते रहना**  
अध्यवसाय करना 489 7

**करद**  
करदाता 647 3

**करदाता**  
करदाता 647.3 ⇨

**करदाता राजा**  
करदाता राजा 882.7 ⇨

**करदोना**  
दोना 683.12

**करधनी**  
करधनी 228.7 ⇨

**चुंघरू** 461 35

**करन फूल**  
कर्णपूर 228 8

**करनहार**  
कर्ता 505 23  
कर्मी 650 25

**करनहारा**  
ब्रह्मा 766 1

**करनहारा [करनहारी!]**  
कर्ता 505 23  
कर्मी 650 25

**करना**  
आज्ञा पालन करना 347 11  
करना 505 10 ⇨  
कर्म करना 504 14  
जाया-व्ययन करना 505 12  
भाड़े पर लेना 622 20  
रक्षित करना 527 3

**करनाई**  
चुरही 461 35

**करनाटक**  
च.नाटक 28 19

**करनाटक संगीत**  
कर्णाटकी संगीत 457 12

**करनाटकी**  
कलाबाज़ 1086 15

**करनाटी**  
कलाबाज़ 1086 15  
बाजीगर 473 18

**करनाल**  
बड़ा दोन 461 45

**करनी**  
करनी 559 5 ⇨  
कर्म 504 1  
कार्य 506 1  
दुष्कर्म 812 6  
पलटा 681 10  
पूर्व कर्म 260.8  
मृतक संस्कार 253 1

**करनी का फल**  
पूर्व कर्मफल 260 9

**करने योग्य**  
करणीय 505 18

**करने वाला**  
कर्ता 505 23

**करनेल**  
कर्नेल 935 12

**कर पंकज**  
कमल पाणि 158 9

**कर पद्म**  
कमल पाणि 158.9

**करपलाई**  
अगुली मुद्रा 464 34

**कर पल्लवी**  
अंगुली मुद्रा 464 34

**करपात्र**  
अंजलि पात्र 150.3

## करपात्री

### करपात्री

साधु 790 6

### करपाल

तलवार 924 7

### करपृष्ठ

पाणि पृष्ठ 150 6

### करपयू

करपयू 880 4 ⇨

### करपयू (अँ)

करपयू 880 4

### करबद्ध

करबद्ध 733 20 ⇨

### करबद्धता

अजलिबद्धता 1060 11

करबद्धता 733 9 ⇨

### करबला

ताजिया दफनगाह 254 17

### करबाल

तलवार 924 7

### करभ

ऊँट 127 27

पाणि पृष्ठ 150 6

### करभ [करभी]

ऊँट शिशु 230 12

### करभी

मादा ऊँट 127 28

### करम

कर्म 504 1

कार्य 506 1

दया 834 1

दान 641 1

दानीत्व 641 2

पूर्व कर्मफल 260 5

प्रारब्ध 260 1

प्रारब्ध लेख 260 6

### करमकल्ला

पात गोभी 189 16

### करम जला [करम जली]

दुर्भाग्यशाली 260 34

### करमकरमौ

दयालु 834 12

### करम करमाना

दया करना 834 8

### करम फूटना

दुर्भाग्य आना 260 25

### करम भोग

प्रारब्ध लेख 260 6

### करमर्द

ऑयला 189 6

करौदा 277 11

### करमर्दक

करौदा 277 11

### करमाल

धूम्र 106 19

### करमाला

जपमाला 749 7

### करम्यली

सूर्य 8 1

### करमुक्त

करमुक्त 647 42 ⇨

### करमुक्त कृषि

लगानमुक्त कृषि 553 4

### करमूल

कंलाई 149 10

### करयुक्त

कराधीन 647 40

### कर योग्य

कराधीन 647 40

### कर योग्यता

कराधीनता 647 32

### कर लगाना

कराधान करना 647 39

### कर वंचक

कर चोर 865 2

### कर वंचन

कर चोरी 865 1

### कर वंचन करना

कर चुराना 865 17

### कर वंचित धन

काला धन 865 3

### करवट

करवट 1027 4 ⇨

दिशा मे 29 35

पार्श्व 997 1

### करवट न लेना

प्रयत्न न करना 490 6

### करवट परिवर्तन

करवट परिवर्तन 1027 5 ⇨

### करवट बदलना

सो न पाना 265 6

### करवट शायी

करवट शायी 1027 19 ⇨

### करवट से लेटना

करवट से सोना 1027 13

### करवट से लेटा

करवट शायी 1027 19

### करवट से सोना

करवट से सोना 1027 13 ⇨

### कर वसूली

कर संग्रह 647 33

### करवा

करवा 679 12 ⇨

### करवा चौथ

करवा चौथ 57 2 ⇨

### करयाल

तलवार 924 7

नख 150 24

वक्र तलवार 924 9

### करयालधारी

तलवारधारी 930 11

### करयाली

कृपाण 924 1

तलवारधारी 930 11

लाठी 923 9

### करवीर

कनेर 14 3

तलवार 924 7

हाथ अँगूठा 150 15

### करवेर

लोबान 274 27

### कर संग्रह

कर संग्रह 647 33 ⇨

### कर संग्राहक

कर संग्राहक 647 34 ⇨

### कर संयुट

अजलि पात्र 150 3

### कर सकना

रक्षम होना 487 14

### करसा

खेसारी 188 10

### करसी

फावड़ा 559 24

सूखा गोबर 116 13

### करस्पर्श

हस्ता आलिंगन 1060 10

### करह

ऊँट 127 27

### करहाट

कमल कोश 112 8

कमल मूल 112 14

### करहाटक

कमल कोश 112 8

कमल मूल 112 14

### करहीन

करमुक्त 647 42

### करौकुल

क्रौंच 126 23

### करांगुष्ठ

हाथ अँगूठा 150 15

### करौतना

आरा चलाना 564 9

### करौती

आराकश 564 2

### कराई

दाल छिलका 116 9

### करात

कैरट 962 31

### कराधान

कराधान 647 31 ⇨

### कराधान करना

कराधान करना 647 39 ⇨

### कराधीन

कराधीन 647 40 ⇨

### कराधीनता

कराधीनता 647 32 ⇨

### कराबा

इत्रदान 274 9

शीशा सुराही 679 17

### करामात

करतब 506 7

घमत्कार 379 4

तिलिस्म 474 13

### करामाती

घमत्कारी 379 10

### करार

अनुबध 339 1

ठेका 659 13

धैर्य 394 6

प्रतिज्ञा 339 17

राहत 171 12

वचन 339 15

सधि 906 5

सौदा 658 3

### करार पाना

अनुबध होना 339 23

राहत मिलना 171 18

### करारा

उच्च मार्ग 1065 3

खड़ा तट 25 16

छप्पर किनारा 615 2

टीला 16 1

### करारा [करारी]

कुरकुरा [कुरकुरी] 197 29

खस्ता 197 30

तीक्ष्ण 270 19

प्रबल 487 24

मोयनदार 197 21

शक्तिशाली 487 20

### करारा उत्तर

करारा उत्तर 334 2 ⇨

### कराल

अदम्य 519 28

भयानक 395 25

विकराल 154 23

### करालता

विकरालता 154 8

### करालिक

तलवार 924 7

### करालिका

दुर्गा 776 1

### कराली

अग्नि जिह्वा सूची 106 10

### करायल

अग्रगामी सेना 933 2

आखेटक 252 2

टोही 336 27

हॉके वाला 252 32

### करायल दस्ता

अग्रगामी सेना 933 2

### करावा

टोना टोटका सूची 759 3

### कराह

आह 386 4

कराह 386.5 ⇨

टीस 392 13

### कराहत

घृणा 370.2

### कराहना

आह भरना 386.18

कराहना 386 19 ⇨

### कराही

कड़ाही 682 7

**करिबदन**  
गणेश 773 22  
**करिया**  
कर्ण 1073 2  
कर्णधार 1080 19  
**करिश्मा**  
करतब 506 7  
घमत्कार 379 4  
नाज़ नख़रा 860 1  
नेत्र मुद्रा 464 32  
विलक्षण वस्तु 312 6  
शोबदा 473 26  
**करींद्र**  
ऐरावत 780 5  
**करी**  
हाथी 127 38  
**करी (अँ)**  
रसेदार भाजी 201 20  
**क़रीन**  
क्रमिक 991 21  
**क़रीना**  
कार्य विधि 514 1  
क्रम 991 1  
व्यवस्था 893 5  
**क़रीनावार**  
व्यवस्थितत 893 17  
**क़रीने क़यास**  
विज्ञान सगत 307 13  
**क़रीने से**  
व्यवस्थितत 893 17  
**करीपति**  
महावत 1082 15  
**करी पत्ता**  
करी पत्ता 281 11 ⇨  
**क़रीब**  
अदाज़न 947 28  
निकट मे 31 9  
**क़रीब क़रीब**  
अंदाज़न 947 28  
**क़रीबन**  
अंदाज़न 947 28  
**क़रीबी**  
घनिष्ठ 704 27  
निकटस्थ 31 7  
रिश्तेदार 715 6  
**क़रीम**  
अल्लाह 764 12  
क्षमा दाता 872 15  
दयालु 834 12  
दानी 641 27  
**क़रीमी**  
ईश्वरीय लीला 764 2  
**करीश**  
ऐरावत 780 5  
**करुआ**  
करवा 679 12  
**करुण**  
अभुपूर्ण 387.7

दयापूर्ण 834 11  
दयालु 834 12  
**करुण क़्रंदन**  
यिलाप 380  
**करुण पुकार**  
आर्तनाद 386 3  
**करुण रस**  
करुण रस 455 13 ⇨  
नवरस सूची 455 11  
**करुणा**  
अनासक्ति 366 1  
करुण रस 455 13  
दया 834 1  
**करुणाकर**  
दयालु 834 12  
**करुणा जनकता**  
दयनीयता 834 7  
**करुणा निधान**  
दयालु 834 12  
**करुणा निधि**  
ईश्वर 764 1  
दयालु 834 12  
**करुणामय**  
कोमलहृदय 834 15  
दयालु 834 12  
**करुणापुक्त**  
दयापूर्ण 834 11  
**करुणार्द्र**  
दयार्द्र 834 14  
**करुणाशील**  
दयालु 834 12  
**करुणा सिंधु**  
दयालु 834 12  
**करुणाहीन**  
कठोरहृदय 835 11  
**करुणाहीनता**  
निर्दयता 835 2  
**करुणोत्पादक**  
दयनीय 834 16  
हृदय भजक 391 34  
**करुया**  
करवा 679 12  
**करुयार**  
कर्ण 1073 2  
**करु**  
परिश्रमी 493 9  
**करे**  
कृतत 505 33  
**करेणु**  
कनेर 14 3  
**करेणुका**  
मादा हाथी 127 39  
**करेणु**  
हाथी 127 38  
**करेतार**  
करेतार 647.41 ⇨  
**करेब**  
क्रेप 580 7

**करेल**  
मुगदर 485 16  
**करेला**  
करेला 189 12 ⇨  
साग सब्जी सूची 189 4  
**करेला नीम चढ़ा**  
बहुत कड़वा 276 8  
**करैत**  
करैत 123 18 ⇨  
सर्प सूची 123 16  
**करैया**  
कार्यान्वय कर्ता 505 28  
**करैल**  
करैल 552 4 ⇨  
**करोट**  
कपाल 133 6  
प्याला 684 12  
**करोटि**  
कटोरा 683 1  
**करोटी**  
कपाल 133 6  
**करोड़**  
करोड़ 948 17 ⇨  
**करोड़खुख**  
डींगबाज 842 15  
**करोड़पती**  
करोड़पती 626 6 ⇨  
**करोड़ाधिक**  
करोड़ाधिक 948 106 ⇨  
**करोड़ी**  
कैशियर 630 13  
**करोना**  
करोना 277 11  
**करोनी**  
खुरचा पदार्थ 542 8  
**करौदा**  
करौदा 277 11 ⇨  
**करोदा**  
साग सब्जी सूची 189 4  
**करोंड**  
रखेली 806 7  
**करोता**  
आरा 559 2  
**करोती**  
आरी 559 3  
इत्रदानि 274 10  
कोंच भट्ठी 109 11  
**करोल**  
अग्रगामी सेना 933 2  
आखेटक 252 2  
होंके वाला 252 32  
**करोली**  
कृपाण 924 1  
**कर्कधु**  
जलहीन कूप 19 5  
**कर्क**  
केकड़ा 124 14

**कर्कट**  
केकड़ा 124 14  
कैसर 167 4  
तराजू डडा वक्र छोर 962 22  
**कर्कटक**  
वक्र चौथा भाग 960 3  
**कर्कटार्बुद**  
कैसर 167 4  
**कर्कटी**  
ककड़ी 190 12  
छोटा घड़ा 679 2  
तराजू डडा वक्र छोर 962 22  
**कर्कर**  
अस्थि 133 1  
कपालास्थि कटोरा 683 5  
कर्कश स्वरीय 299 26  
कोरडम 92 7  
खुरदुरा [खुरदुरी] 269 19  
यमड़ा पेट्टी 571 2  
**कर्कराक्ष**  
खजन 126 24  
**कर्क राशि**  
राशि सूची 4 8  
**कर्क रोग**  
कैसर 167 4  
**कर्कश**  
कटोर 269 17  
कड़वा [कड़वी] 76 7  
कर्कश 838 10 ⇨  
कर्कश स्वरीय 299 26  
खुरदुरा [खुरदुरी] 269 19  
भुतिकटु 294 26  
**कर्कशा [कर्कशा]**  
कलहप्रिय 708 13  
**कर्कशता**  
कर्कश स्वभाव 838 3  
कर्कश स्वरीयता 299 11  
**कर्कश सौदेबाजी**  
कर्कश सौदेबाजी 650 ⇨  
**कर्कश स्वभाव**  
कर्कश स्वभाव 838 3 ⇨  
**कर्कश स्वभावी**  
कर्कश 838 10  
**कर्कश स्वरीय**  
कर्कश स्वरीय 299.26 ⇨  
**कर्कश स्वरीयता**  
कर्कश स्वरीयता 299 11 ⇨  
**कर्कशा**  
कर्कशा 838 11 ⇨  
**कर्क संक्राति**  
उत्तर अयनांत 5 20  
**कर्क से धनु राशि तक पूर्व गति काल**  
दक्षिणायन 5 18  
**कर्कारु**  
कर् 189 10  
**कर्कोटक**  
आठ नागराज सूची 778 18  
कर्कोड़ा 189.8

## कर्घा

### कर्घा

करघा 562 15

### कर्घूरक

हलदी 281 38

### कर्घ

ऋण 633 7

### कर्घर्जदार

ऋणी 633 35

### कर्घर्जा

ऋण 633 7

### कर्घटी (अं)

कोरनिश 1060 6

### कर्घटन (अं)

परदा 605 6

यवभिका 606 1

### कर्घटन काल (अं)

नाट्य अत सूची 468.25

### कर्घ

कर्घ 771.47 ⇨

कर्घ 1073.2 ⇨

कर्घ भुजा 968 31

कान 142 1

चतुर्भुज व्यास 968 36

मगल ग्रह 7 7

वाद्य खूँटी 461 95

विकर्घ रेखा 968 25

विमान दिशा नियंता 1074 25

व्यास 972 12

### कर्घ अधिकारी

कर्घधार 1080 19

### कर्घक

बरतन हत्था 680 29

### कर्घकटु

श्रुतिकटु 294 26

### कर्घकीट

कनखजूरा 122 13

### कर्घ कुंडल

कर्घ कुंडल 228 9 ⇨

प्रालंब सूची 1024 4

### कर्घ कुहर

कान छिद्र 142.2

### कर्घ गुहा

कान. छिद्र 142 2

### कर्घगुध

कर्घ मल 215 8

### कर्घ गोघर

श्रुतिगम्य 293 17

### कर्घगोघरता

श्रुतिगम्यता 293 6

### कर्घ छिद्र

कान छिद्र 142.2

### कर्घ जलीका

कनखजूरा 122 13

### कर्घधार

कर्घधार 1080 19 ⇨

दिशा निर्धारक 29 24

### कर्घ धारण

कर्घ धारण 1080 6 ⇨

### कर्घ धारना

नीकायन करना 1080 31

### कर्घन

कर्घ धारण 1080.6

### कर्घ नौका

टग बोट 1072.27

पतवारी नौका 1072.8

### कर्घनपटी

कनपटी 140 14

### कर्घनपत्र भंग

घोसठ कला सूची 397 4

### कर्घ परंपरा

अपुष्ट समाचार 440 5

### कर्घ पर्व

महाभारत पर्व सूची 771.23

### कर्घपाली

कान ललरी 134.13

बाली 228 21

### कर्घ पिशाची

परोक्ष ज्ञान शक्ति 305 7

### कर्घपुष्प

कर्घपूर 228.8

### कर्घपूर

कर्घपूर 228 8 ⇨

नील कमल 14 5

शिरीष 13 21

### कर्घपूरक

अशोक 13 4

कदंब 13 6

### कर्घप्रसू

कुती 771 49

### कर्घप्रिय

श्रुतिप्रिय 294 25

### कर्घफूल

लौंग 281 30

### कर्घ भुजा

कर्घ भुजा 968.31 ⇨

त्रिकोण भुजा सूची 968 29

### कर्घनभुर

श्रुतिप्रिय 294 25

### कर्घ मल

कर्घ मल 215 8 ⇨

### कर्घमल

देह मल सूची 215 2

### कर्घमोटी

चामुडा 776 5

### कर्घ रंध

कान छिद्र 142 2

### कर्घ रेखा

विकर्घ रेखा 968 25

### कर्घयिद्ध

कनछिदा [कनछिदी] 798 42

### कर्घवेध

सोलह संस्कार सूची 798.3

### कर्घ वेधन

कनछेदन संस्कार 798 16

### कर्घहीन

बहरा [बहरी] 164 7

### कर्घकर्मि

कानाफूसी 435.4

### कर्घाट

दक्षिण भारत 28.4

राग रागिनी सूची 457.24

### कर्घाटक

कर्घाटक 28 19

### कर्घाटकी संगीत

कर्घाटकी संगीत 457 12 ⇨

### कर्घातीत

अश्रुतिगम्य 293 18

### कर्घानुज

युधिष्ठिर 771 80

### कर्घारि

अर्जुन 771 36

### कर्घार्ध

अर्ध व्यास 972.14

### कर्घार्पण

श्रवण 293 2

### कर्घायधान

ध्यानपूर्वक श्रवण 293 4

### कर्घाक

कर्घधार 1080 19

पोत मुशी 1080 18

### कर्घाका

कलम 416 2

कोर्नियार् 141 8

गिलटी 166 4

### कर्घी

कर्घधार 1080 19

### कर्घीसुत

कस 771 46

### कर्घीद्रिय

श्रवण अनुभूति 293.1

### कर्घीजप

कानाफूसी कर्ता 435 26

चुगलखोर 843.26

### कर्घीपकर्घिका

अपुष्ट समाचार 440.5

### कर्घक

कर्घक 543.16 ⇨

### कर्घन

कर्घन 543.1 ⇨

संक्षेपण 980.5

### कर्घनक

कर्घाई उपकरण 561 1

### कर्घनकार

कर्घक 543 16

### कर्घनक्षम

कर्घनक्षम 543.15 ⇨

### कर्घनी

कैची 561 4

### कर्घव्य

करणीय 505 18

कर्घव्य 895.4 ⇨

छह. उपमान सूची 948.28

दायित्य 895 1

धर्म 735 1

पुण्य 814 1

### कर्घव्य अपालक

कर्घव्य विमुख 896 8

### कर्घव्य अपालन

कर्घव्य विमुखता 896 3

### कर्घव्य उपदेश

धर्म उपदेश 742.5

### कर्घव्य च्युत

कर्घव्य विमुख 896 8

### कर्घव्य च्युति

कर्घव्य विमुखता 896.3

### कर्घव्यता

करणीयता 505 3

### कर्घव्य निर्वाहक

कर्घव्य पालक 895 12

### कर्घव्यनिष्ठ

कर्घव्य पालक 895 12

### कर्घव्य निष्ठा

कर्घव्य पालन 895 5

### कर्घव्य परायण

कर्घव्य पालक 895 12

### कर्घव्य परायणता

कर्घव्य पालन 895 5

### कर्घव्य पालक

कर्घव्य पालक 895.12 ⇨

### कर्घव्य पालन

कर्घव्य पालन 895.5 ⇨

### कर्घव्य पालन करना

कर्घव्य पालन करना 895 8 ⇨

### कर्घव्य पालन न करना

कर्घव्य विमुख होना 896 4

### कर्घव्यपूर्ण

दायित्वपूर्ण 895 9

### कर्घव्य बोध

निदेश 347 2

### कर्घव्य विमुख

कर्घव्य विमुख 896.8 ⇨

### कर्घव्य विमुखता

कर्घव्य विमुखता 896.3 ⇨

### कर्घव्य विमुख होना

कर्घव्य विमुख होना 896.4 ⇨

### कर्घव्य शास्त्र

धर्म उपदेश 742.5

### कर्घव्यशील

कर्घव्य पालक 895.12

### कर्घा

ईश्वर 764.1

कर्घा 505.23 ⇨

कर्घार्घता 652 11

कार्यकर्घा 506 9

कार्यान्वय कर्घा 505.28

दक्ष 787.2

ब्रह्मा 766.1

वाक्यांग सूची 424.5

विष्णु 768.1

### कर्घा [कर्घी]

उत्पादक 546.13

कर्घी 650.25

रचेता 527 14  
**कर्ता कारक**  
 कर्ता कारक 425.21 ⇨  
**कर्ताधर्ता**  
 कर्ताधर्ता 652 11 ⇨  
 महा अध्यक्ष 652 16  
**कर्ता भाव**  
 कर्तृत्व 505 4  
**कर्तार**  
 ईश्वर 764 1  
 कर्ता 505 23  
 कर्मी 650 25  
 ब्रह्मा 766 1  
**कर्ताहीन**  
 अकर्तृक 505 22  
**कतित**  
 कर्तित 543.14 ⇨  
 सक्षिप्त 980 24  
**कर्तृक**  
 कर्ता 505 23  
**कर्तृत्व**  
 कर्तृत्व 505 4 ⇨  
 कार्य 506 1  
**कर्तृत्व अधीन**  
 कर्तृत्व अधीन 260 28 ⇨  
**कर्तृत्व अधीनता**  
 कर्तृत्व अधीनता 260 3 ⇨  
**कर्तृत्व अधीन होना**  
 कर्तृत्व अधीन होना 260 21 ⇨  
**कर्तृत्वबाद**  
 कर्तृत्वबाद 260 5 ⇨  
**कर्तृत्ववादी**  
 कर्तृत्ववादी 260 30 ⇨  
**कर्तृत्वव्य क्रिया**  
 क्रिया वाच्य सूची 425 7  
**कर्त्री**  
 कैची 561 4  
**कर्दम**  
 ऋषि मुनि सूची 789 17  
 कीचड़ 214.2  
 गीप्रिन 167.5  
 पाप 812 1  
 मास 132.1  
**कर्दमित**  
 कीचड़दार 214 10  
**कर्नल**  
 कर्नल 935.12 ⇨  
**कर्नल (औं)**  
 कर्नल 935.12  
 लेफ्टिनेंट कर्नल 935 13  
**कर्नाटक**  
 कर्नाटक 28.19 ⇨  
**कर्नाटकः राजधानी**  
 कर्नाटकः राजधानी 28.20 ⇨  
**कर्नाटकी**  
 दक्षिण भारतीय 28.76  
**कर्नल**  
 कर्नल 935.12

**कर्पट**  
 कपाल 133.6  
 चीथड़ा 938 16  
**कर्पर**  
 कपाल 133 6  
 कपालास्थि कटोरा 683 5  
 मूदभाडाश 77 6  
**कर्पूर**  
 कर्पूर 274 14  
**कर्ब (औं)**  
 सड़क कर्ब 1064 2  
**कर्बर**  
 पिशाच 786 8  
 राक्षस 784 1  
**कर्बरी**  
 राक्षस स्त्री 784 2  
**कर्बुर**  
 चितकबरा [चितकबरी] 289 75  
 बहुरगा [बहुरगी] 289 70  
 राक्षस 784 1  
 स्वर्ण 95 4  
**कर्बुरी**  
 ट्राउट 125 6  
**कर्म**  
 आचरण 808 1  
 करण 505 1  
 कर्म 504 1 ⇨  
 कार्य 506 1  
 घटना 75 1  
 छह उपमान सूची 94.28  
 धर्म कर्म 747 1  
 पूर्व कर्म 260 8  
 पूर्व कर्मफल 260 9  
 प्रयत्न 489.1  
 प्रारब्ध 260 1  
 मोक्ष साधन सूची 257 4  
 वाक्यांग सूची 424 5  
 व्यवसाय 650 9  
 सस्कार 798 1  
 सम्मान कारण सूची 854 6  
**कर्म अधीन**  
 कर्तृत्व अधीन 260 28  
**कर्म अधीनता**  
 कर्माधीनता 260.36  
**कर्म अधीनता**  
 कर्तृत्व अधीनता 260 3  
**कर्म अनिष्ट**  
 अपरिश्रमी 490 11  
**कर्म अनिष्ठा**  
 अपरिश्रम 490 3  
**कर्म अवकाश**  
 विश्राम काल 494 2  
**कर्मकर**  
 कर्मी 650.25  
 श्रमिक 651.19  
**कर्म करण**  
 करण 505.1

**कर्मकरता**  
 श्रमिकता 651 18  
**कर्म करना**  
 कर्म करना 504 14 ⇨  
**कर्म कलाप**  
 आचरण 808 1  
 चरित्र 810 1  
**कर्मकांड**  
 धर्म कर्म 747 1  
**कर्मकांडी**  
 पुरोहित 744 11  
**कर्मकार**  
 कर्मी 650 25  
 लोहार 565 15  
 शिल्पकार 557 10  
 श्रमिक 651 19  
**कर्म कारक**  
 कर्म कारक 425 22 ⇨  
**कर्मक्षम**  
 कार्यक्षम 487 27  
**कर्म क्षमता**  
 कार्य क्षमता 487 9  
**कर्मक्षय**  
 कर्मक्षय 504 9 ⇨  
**कर्म क्षेत्र**  
 अधिकार क्षेत्र 897 2  
**कर्मक्षेत्र**  
 इहलोक 258 11  
 कार्यक्षेत्र 506 2  
**कर्मघात**  
 कर्मक्षय 504 9  
**कर्मगण**  
 कर्मचारी 652 27  
**कर्मचर्या**  
 कर्मचारिता 652 26  
**कर्मचारिता**  
 कर्मचारिता 652.26 ⇨  
**कर्मचारी**  
 कर्मचारी 652 27 ⇨  
**कर्मचारी समूह**  
 कर्मचारी समूह 652.28 ⇨  
**कर्मज**  
 कर्मफल 504 10  
**कर्मठ**  
 कर्तृत्ववादी 260 30  
 परिश्रमी 493.9  
**कर्मठता**  
 कर्मयोग 756 7  
 परिश्रमशीलता 493.2  
 मंनोबल 394 4  
**कर्मणा**  
 परिश्रमपूर्वक 493 14  
**कर्मण्य**  
 कर्तृत्ववादी 260.30  
 परिश्रमी 493 9  
 प्रवीण 303.22  
 स्फूर्ति 491.13

**कर्मण्यता**  
 ऊर्जा 101 1  
 परिश्रमशीलता 493 2  
 सचलता 1037 3  
 स्फूर्ति 491 2  
**कर्मण्या**  
 पारिश्रमिक 643 8  
**कर्मतः**  
 परिश्रमपूर्वक 493 14  
**कर्मत्याग**  
 कर्मफल त्याग 504 13  
**कर्मत्याग करना**  
 सन्यास लेना 233 9  
**कर्मत्यागी**  
 कर्मफल त्यागी 504 21  
**कर्मदान**  
 श्रमदान 700 9  
**कर्म देव**  
 कर्म देवता 772 16  
**कर्म देवता**  
 कर्म देवता 772 16 ⇨  
**कर्म द्वेष**  
 कामचोरी 490 2  
**कर्म न करना**  
 प्रयत्न न करना 490 6  
**कर्मनिष्ठ**  
 धर्मी कर्मी 747 6  
 परिश्रमी 493.9  
**कर्मन्यास**  
 कर्मफल त्याग 504 13  
**कर्म परिणाम**  
 कर्म 506 1  
**कर्मपूर्वक**  
 परिश्रमपूर्वक 493 14  
**कर्म प्रतिकर्म**  
 कर्म प्रतिकर्म 504 2 ⇨  
**कर्मफल**  
 कर्मफल 504 10 ⇨  
 पूर्व कर्मफल 260 9  
 प्रतिफल 510 3  
 प्रारब्ध लेख 260 6  
 सुख दुःख 390 1  
**कर्मफल अनासक्ति**  
 कर्मफल अनासक्ति 504.12 ⇨  
**कर्मफल आसक्ति**  
 कर्मफल आसक्ति 504.11 ⇨  
**कर्मफल त्याग**  
 कर्मफल त्याग 504.13 ⇨  
**कर्मफलः त्याग**  
 कर्मफल त्याग 504 13  
**कर्मफल त्यागी**  
 कर्मफल त्यागी 504.21 ⇨  
**कर्मफल भुगतना**  
 कर्मफल भुगतना 260.22 ⇨  
**कर्मफल भोग**  
 कर्मफल भोग 260.10 ⇨  
**कर्मफल भोगना**  
 कर्मफल भुगतना 260.22

## कर्मफल भोगी

प्रतिफल भोगना 510 8  
**कर्मफल भोगी**  
कर्मफल भोगी 260 32 ⇨  
**कर्मफलवाद**  
प्रारब्धवाद 260 4  
**कर्मभूत देवता**  
कर्म देवता 772 16  
**कर्म भूमि**  
कार्य स्थान 654 1  
भारत 28 1  
यज्ञ स्थान 753 17  
**कर्म भोग**  
सुख दुःख 390 1  
**कर्म मार्ग साधना**  
कर्मयोग 756 7  
**कर्म मास**  
कर्म मास 43 21 ⇨  
**कर्मयुग**  
कलियुग 40 15  
**कर्मयोग**  
कर्मयोग 756 7 ⇨  
परिश्रमशीलता 493 2  
साधना 303 7  
**कर्मयोग शास्त्र**  
गीता 740 14  
**कर्मयोगी**  
परिश्रमी 493 9  
साधक 303 21  
**कर्मरेख**  
प्रारब्ध लेख 260 6  
**कर्मलेख**  
चित्रगुप्त बही 256 7  
प्रारब्ध लेख 260 6  
**कर्मवाच्य क्रिया**  
क्रिया वाच्य सूची 425 7  
**कर्मवाद**  
प्रारब्धवाद 260 4  
**कर्म विपाक**  
पूर्व कर्मफल 260 9  
**कर्म विषयक**  
कर्मिय 504 16  
**कर्म: विस्तार**  
वाक्यांग सूची 424 5  
**कर्मवीर**  
परिश्रमी 493 9  
**कर्मवीरता**  
कर्मयोग 756 7  
परिश्रमशीलता 493 2  
**कर्म शक्ति**  
ऊर्जा 101 1  
**कर्मशास्त्र**  
यंत्रालय 558 12  
**कर्मशील**  
परिश्रमी 493 9  
स्फूर्त 491 13  
**कर्मशूर**  
परिश्रमी 493 9

**कर्म संग**  
कर्मफल आसक्ति 504 11  
**कर्म संघ**  
कर्म संघ 692 16 ⇨  
**कर्म संन्यास**  
कर्मफल त्याग 504 13  
**कर्म संन्यासी**  
कर्मफल त्यागी 504 21  
**कर्म संपादन**  
कार्यान्वयन 505 5  
**कर्मसाक्षी**  
प्रत्यक्ष साक्षी 876 18  
यमराज 256 1  
सूर्य 8 1  
**कर्मसाक्षी देवता**  
कर्मसाक्षी देवता 772 17 ⇨  
**कर्मसाक्षी देवता सूची**  
कर्मसाक्षी देवता सूची 772 18 ⇨  
**कर्मसाक्ष्य**  
प्रत्यक्ष साक्ष्य 876 17  
**कर्म साधन**  
कर्मद्रिय 268 7  
**कर्म सूचक शब्द**  
क्रिया 425 4  
**कर्म से**  
परिश्रमपूर्वक 493 14  
**कर्म से देव पद को प्राप्त देवता**  
कर्म देवता 772 16  
**कर्म स्थल**  
कार्य स्थान 654 1  
**कर्म स्थली**  
कार्य स्थान 654 1  
**कर्म स्थान**  
कार्य स्थान 654 1  
**कर्महीन**  
अप्रयत्नशील 490 9  
प्रारब्धवादी 260 29  
**कर्महीनतः**  
अप्रयत्नत 490 15  
**कर्महीनता**  
अकर्म 504 5  
अपरिश्रम 490 3  
प्रारब्धवाद 260 4  
**कर्मात**  
कार्य दिवसात् 494 3  
जुता खेत 551 12  
यंत्रालय 558 12  
**कर्माधीनतः**  
कर्माधीनत 260 36 ⇨  
**कर्मानुराग**  
परिश्रमशीलता 493 2  
**कर्मानुरागी**  
लगनशील 493 11  
**कर्मार**  
लोहार 565 15  
शिल्पकार 557 10  
अभिक 651 19

**कर्मासक्ति**  
कर्मफल आसक्ति 504 11  
**कर्मिता**  
व्यवसायिता 650 10  
**कर्मिष्ठ**  
परिश्रमी 493 9  
**कर्मी**  
कर्मी 504 17 ⇨  
कर्मी 650 25 ⇨  
कर्मिय 504 16  
परिश्रमी 493 9  
रचेता 527 14  
अभिक 651 19  
**कर्मी (दे.)**  
कर्मी 504 17  
**कर्मिय**  
कर्मिय 504 16 ⇨  
**कर्मीर**  
चितकबरा [चितकबरी] 289 75  
नारगी 289 48  
**कर्मी संघ**  
कर्म संघ 692 16  
**कर्मेन्द्रिय**  
कर्मेन्द्रिय 268 7 ⇨  
**कर्मेन्द्रिय आदेशक**  
अतरेन्द्रिय 268 4  
**कर्मेन्द्रिय सूची**  
कर्मेन्द्रिय सूची 268 8 ⇨  
**कर्मी का फल होना**  
प्रारब्धाधीन होना 260 20  
**कर्मान्मुखता**  
प्रवृत्ति 502 1  
**कर्म्य**  
कार्यान्वयनीय 505 25  
**कर्म्यता**  
करणीयता 505 3  
**करा**  
कर्कश 838 10  
**करा [कर्मी]**  
अति कृपण 639 27  
कठोर व्यतहारी 831 11  
कठोरहृदय 835 11  
**कर्री**  
कर्कशा 838 11  
**कर्यट**  
पर्वत ढाल 16 12  
**कर्वर**  
पिशाच 786 8  
**कर्वरी**  
दुर्गा 776 7  
**कर्व**  
भार वहन 1061 2  
हल जुताई 1079 1  
हल रेखा 551 20  
**कर्वक**  
कर्षण कर्ता 1051 37  
कृषक 548.2  
ट्रेक्टर 563 15

**कर्षक यान**  
अग्रयान 1070 8  
**कर्षण**  
कर्षण 1051 7 ⇨  
हल कर्म 548 3  
**कर्षण करना**  
कर्षित करना 1051 22  
**कर्षण कर्ता**  
कर्षण कर्ता 1051 37 ⇨  
**कर्षण नौका**  
टग बोट 1072 27  
**कर्षणी**  
व्यभिचारिणी 806 11  
**कर्ष नौका**  
टग बोट 1072 27  
**कर्षिणी**  
लगाम 505 17  
**कर्षित**  
कर्षित 1051 36 ⇨  
हलित 548 48  
**कर्षित करना**  
कर्षित करना 1051 22 ⇨  
**कर्षी**  
आकर्षक 1050 29  
कर्षण कर्ता 1051 37  
फावडा 559 24  
**कर्षी गुलेल**  
ग्लाइडर विद्य 1074 8  
**कर्षी प्रतिकर्षी**  
प्रतिकर्ष 1050 35  
**कर्षी विकर्षी**  
प्रतिकर्ष्य 1050 35  
**कर्षू**  
हल रेखा 551 20  
**कलंक**  
कालिख 106 18  
कुख्याति 848 1  
दुर्गुण 314 4  
धब्बा 217 2  
धातु मल 214 5  
लाछन 843 7  
**कलंक का टीका**  
लाछन तिलक 843 8  
**कलंकभी**  
मादा सिंह 127 51  
**कलंकित**  
लाछित 843.23  
**कलंकित कर्ता**  
लाछन कर्ता 843 24  
**कलंकी**  
कुख्यात 848.4  
चंद्रमा 8 2  
लाछित 843.23  
**कलंगी**  
कलगी 140 5  
**कलंडर**  
कैलंडर 41 4

**कलंदर**

अलमस्त 382 23  
 अलमस्त व्यक्ति 382 8  
 इसलामी साधु 790 23  
 तबू खूँटा 600 25  
 बाजीगर 473 18  
 मदारी 473 23  
**कलंदरी**  
 छोटा तबू 600 20  
 बाजीगरी 473.17  
**कलंब**  
 बाण 926 16  
**कल**  
 आगामी कल 46 14  
 करवट 1027 4  
 कल 46 12 ⇨  
 गुर 517 4  
 नकेल 555.18  
 नियत्रण उपमान सूची 899 27  
 पार्श्व 997 1  
 बदुक घोड़ा 927 7  
 मधुर ध्वनिक 294 27  
 यत्र 558 10  
 यंत्र अवयव 558 18  
 युक्ति 517 1  
 राहत 171 12  
 विगत कल 46 13  
 वीर्य 130 10  
 भुक्तिप्रिय 294 25  
 सात्वना 393 4  
 सुदर 157 7  
 सुरक्षा 908 4  
 सुरीला [सुरीली] 459 38  
 स्वर सामजस्यपूर्ण 460 45  
**कल- (जैसे: कलमूँहा)**  
 काला 289 37  
**कल आज और कल**  
 त्रिकाल 36 9  
**कलई**  
 घूना पुताई 291 5  
 मुलम्मा 292 8  
 रौंगा 94 13  
**कलई चुलना**  
 पाखंड अनावृत्त होना 822 19  
**कलई: घूना**  
 कली घूना 290 23  
**कल ऐंठना**  
 पट्टी पढ़ाना 332 13  
**कलकंठ**  
 कबूतर 126 16  
 कोयल 126 21  
**कल कंठ**  
 मधुर स्वर 299.8  
**कलकंठ**  
 मधुर स्वरिय 299 25  
 ईस 126.76  
**कलक**  
 खेद 380.1

परघाताप 380 4  
 शारीरिक पीड़ा 392 4  
**कलकत्ता**  
 पश्चिम बंगाल राजधानी 28 49  
**कल का**  
 निकट भूत कालीन 36 19  
**कलकानि**  
 कलह 708 1  
**कल कारखाना**  
 उद्योग 557 3  
 सयत्र 558 13  
**कल कारखाना (दे.)**  
 पूँजीगत उपकरण 557 8  
**कलकृजिका**  
 गायिका वेश्या 807 6  
 मिष्टभाषिणी 431 9  
**कलकृणिका**  
 मिष्टभाषिणी 431 9  
**कलकर (अँ)**  
 कर संग्रहक 647 34  
 जनपद न्यायाधीश 874 16  
 जनपद प्रशासक 891 5  
 संग्रह कर्ता 669 21  
**कलक्टिंग (अँ)**  
 संग्रहण 669 1  
**कलक्यान (अँ)**  
 संग्रह 669 2  
**कलगी**  
 कलगी 140 5 ⇨  
 टोप टोपी कलगी 334 19  
 मोर 802 18  
 वृक्ष शिखर 114 14  
 शिखर 982 6  
**कल घुमाना**  
 पट्टी पढ़ाना 332 13  
**कलछा**  
 कलछा 681 1 ⇨  
**कलछी**  
 कलछी 681.5 ⇨  
**कलछुल**  
 कलछा 681 1  
**कलछुला**  
 कलछा 681 1  
**कलजिम्मा [कलजिम्मी]**  
 अकल्याण भाषी 7:1 12  
**कलजुग**  
 कलियुग 40 15  
**कलजुगी**  
 कलियुगीन 40 20  
**कलझंवी [कलझंवी]**  
 गहरा काला 289 38  
**कलदटर**  
 जनपद प्रशासक 891 5  
**कलत्र**  
 पत्नी 803 6  
 श्रोणी चक्र 133 16  
**कलथरा**  
 कलथरा 1077.36 ⇨

**कलदार**  
 धन 628 1  
 रुपया 629 20  
**कलधीत**  
 चाँदी 95 3  
**कलध्वनि**  
 कलरव 298 8  
 कोयल 126 21  
 मोर 126 68  
**कलन**  
 आकलन 947 5  
 कलन गणित 953 6  
 जोड़ कर्म 954 2  
 परिकलन 953 9  
**कलन गणित**  
 कलन गणित 953.6 ⇨  
**कलनाद**  
 हस 126 76  
**कलनादी [कलनादिनी]**  
 मधुर ध्वनिक 294 27  
**कलपना**  
 ईर्ष्या होना 709 3  
 कल्पना करना 308 10  
 खीजना 373 18  
 झुंखी होना 391 18  
 प्रसरकरण करना 527 10  
 रोना 386 16  
 विलाप करना 386 23  
**कल परसों**  
 निकट भूत काल में 36 31  
**कलपा [कलपी]**  
 बीजा [खीजी] 373 31  
**कलपाना**  
 उत्पीड़ित करना 391 20  
 कष्ट देना 392 16  
**कल पुरजा**  
 यत्र अवयव 558 18  
**कलपेघ**  
 दौवपेघ 819 11  
**कलफ**  
 कलफ 220 22 ⇨  
 स्टार्च 179 11  
**कलबल**  
 अस्पष्ट उच्चारण 299 10  
**कलबूल**  
 गुब्बद 611 5  
 गोल गुब्बतरा 610 8  
 छोटा गुब्बद 611 6  
 दौघा 565 21  
**कल बेकल होना**  
 आतुर होना 496 7  
 तड़पना 392 20  
**कलम [कलपी]**  
 ऊँट शिशु 230.12  
**कलभाषिणी**  
 मिष्टभाषिणी 431 9  
**कलम**  
 कतरन 938 4

कर्तित 543 14  
 कलम 416 2 ⇨  
 कलम 559 6 ⇨  
 खड 938 1  
 पख डडी 151 9  
 पेड़ पौधा कलम 113 7  
 प्रिन्म 289 6  
 फौक कटाई 543 6  
 लेखनी 416 1  
 शेव रेखा 224 9  
 हस्तलेख 412 6  
**कलम (चित्रकला)**  
 कला शैली 397 14  
**कलम (दे.)**  
 कलम 559 6  
**कलम करना**  
 काटना 543 13  
**कलमकार**  
 साहित्य लेखक 448 2  
**कलमकारी**  
 चित्रकला 404 23  
 बेलबूटा 578 13  
 साहित्य लेखन 448 1  
**कलम का सिपाही**  
 साहित्य लेखक 448 2  
**कलम घसीटना**  
 कुलेखन करना 412 39  
**कलम घिसैया**  
 स्तरहीन बहुलेखक 448 3  
**कलमजद**  
 कर्तित 543 14  
**कलम. जीम**  
 कलम जीम 416.3 ⇨  
**कलम: जीम काट**  
 कलम जीम काट 416 4 ⇨  
**कलम: जीम घीरा**  
 कलम जीम घीरा 416 5 ⇨  
**कलमजीवी**  
 साहित्य लेखक 448 2  
**कलम तोड़ना**  
 मृत्यु दंड देना 871 18  
**कलमदान**  
 कलमदान 416 19 ⇨  
**कलमदानी**  
 कलमदान 416 19  
**कलम: पंख**  
 कलम पंख 416 6 ⇨  
**कलमबंद**  
 दस्तावेज लिखित 412 49  
 लिपिबद्ध 412.44  
**कलमबंद करना**  
 लिपिबद्ध करना 412 36  
 हाथ से लिखना 412 37  
**कलमबंदी**  
 दस्तावेज लेखन 412 23  
 लिपिबद्धन 412 2  
**कलम लगाई**  
 कलम लगाई 548.11 ⇨

## क्रलम लगाना

**क्रलम लगाना**  
 कलम लगाना 548.37 ⇨  
**कलमलाना**  
 परघात्ताप होना 380 9  
**क्रलमः** स्याही में बुबकी  
 डोबा 1031 13  
**कलमा**  
 कलमा 741 33 ⇨  
 सूक्ति 434 2  
**कलमागो**  
 मुसलिम 736 2  
**कलमा पबना**  
 प्रशसा करना 841 24  
**कलमा पाठ (इस्लाम)**  
 धर्म ग्रहण विधि सूची 742 12  
**कलमा भरना**  
 प्रशंसा गाना 841 25  
**क्रलमी**  
 क्रलमी 548.54 ⇨  
 दरदरा [दरदरी] 540 18  
 हस्तलिखित 412 45  
**क्रलमी आम**  
 आम सूची 190 10  
**कलमुँहा [कलमुँही]**  
 लाछित 843 23  
**कलमुँही**  
 व्यभिचारिणी 806 11  
**कलयाना**  
 अकुर निकलना 117 10  
**कलयुग**  
 आधुनिक काल 76.9  
**कलयुगी**  
 कलियुगीन 40 20  
**कलर (अँ)**  
 रंग 289 1  
 रगव्य 290 1  
**कलर बाक्स**  
 कलर बाक्स 416 22 ⇨  
**कलर बाक्स (अँ)**  
 कलर बाक्स 416.22  
**कलरव**  
 आनद धनि 382 10  
 कलरव 298.8 ⇨  
**कलरव (दे.)**  
 मद धनि 294 7  
**कलरव करना**  
 आनद धनि करना 382 13  
**कलरयी**  
 कोलाहलकारी 294 31  
**कलर स्कीम (अँ)**  
 रंग विन्यास 289 11  
**कलल**  
 भूण 241 11  
**कलयारन**  
 साक्ली बाला 209 33  
**कलयारी**  
 मद्य विक्रय 209.30

**कलथिक**  
 कोयल 126 21  
 मुलबुल 126 59  
**कलश**  
 उच्चता उपमान सूची 982 13  
 कलश 745 43 ⇨  
 गुबद 611.5  
 घड़ा 679 1  
 धातु घट 679 6  
 पीतल घट 679 8  
 मगल कलश 796 5  
 मदिर शिखर 611 2  
 लोटा 684 17  
 विवाह कलश 802 21  
**कलशाधारिणी**  
 शीतला 774 91  
**कलशी**  
 धातु घट 679 6  
 लुटिया 684 16  
**कलस**  
 गुबद 611 5  
 धातु घट 679 6  
**कलसा**  
 कलश 745 43  
 घड़ा 679 1  
 धातु घट 679 6  
 लोटा 684 17  
**कलसी**  
 घड़ा 679 1  
 छोटा गुबद 611 6  
 धातु घट 679 6  
 लुटिया 684 16  
**कलहंस**  
 निर्गुण ब्रह्म 764 28  
 राजहस 126 78  
 हस 126 76  
**कलह**  
 एकता भग 699 2  
 कलह 708.1 ⇨  
 तलवार म्यान 924 6  
 प्रणय कलह 374.3  
 युद्ध 905 4  
**कलह करना**  
 कलह करना 708 9 ⇨  
**कलह करवाना**  
 कलह करवाना 708 10 ⇨  
**कलहकार**  
 उपद्रवकारी 903 17  
 योद्धा 934 15  
**कलहकारिता**  
 कलहकारिता 708 2 ⇨  
**कलहकारी**  
 कलहप्रिय 708 13  
**कलहप्रिय**  
 कलहप्रिय 708 13 ⇨  
**कलहप्रिया**  
 मैना 126 67

**कल हथ में होना**  
 वशाधीन होना 901 5  
**कलही**  
 कलहप्रिय 708 13  
**कल ही**  
 निकट भूत काल में 36.31  
**कलहीन**  
 उद्दिग्न 377 13  
**कलहीनता**  
 उद्दिग्नता 377 4  
**कली**  
 बृहत 979 15  
**कला**  
 अभिनय 464 2  
 कला 397 1 ⇨  
 कला विधा 397 13  
 खड 938.1  
 गायन वादन 460 8  
 चक्र साठवाँ भाग 960.11  
 चक्र सोलहवाँ भाग 960 7  
 त्वचा झिल्ली 134 2  
 लीला 506 8  
 सगीत 457.1  
 सोलह उपमान सूची 948 50  
**कला आस्वादक**  
 कला उपभोक्ता 399 2  
**कला आस्वादन**  
 कला उपभोग 399 1  
**कलाई**  
 कलाई 149.10 ⇨  
 छोटा पूला 686.20  
 पूला 686 19  
 महावत पदाश्रय 596 21  
 लच्छी 575 7  
**कलाई कवच**  
 कलाई कवच 921.7 ⇨  
**कलाई पट्टी**  
 आस्तीन कफ 585 78  
**कलाई-पाणिः जोड़**  
 गट्टा 149.11  
**कलाई-मध्यमिकाः हथ**  
 पाणि 150 1  
**कला उपभोक्ता**  
 कला उपभोक्ता 399.2 ⇨  
**कला उपभोक्ता गण**  
 कला उपभोक्ता गण 399.3 ⇨  
**कला उपभोग**  
 कला उपभोग 399 1 ⇨  
**कला उपभोग करना**  
 कला उपभोग करना 399.17 ⇨  
**कलाकंद**  
 कलाकंद 203.3 ⇨  
 माया 193 16  
**कला कर्म**  
 कला कर्म 397 15 ⇨  
**कला कर्म करना**  
 कला कर्म करना 397.33 ⇨

**कला कर्मी**  
 कलाकार 397 16  
**कलाकार**  
 अभिनेता 464 5  
 कलाकार 397.16 ⇨  
**कला का रस लेना**  
 कला उपभोग करना 399 17  
**कलाकारिता**  
 कला कर्म 397.15  
 कलापूर्णता 402 1  
 रघनाशीलता 527 3  
**कलाकृति**  
 कलाकृति 397 20 ⇨  
**कला कोविद**  
 सिद्ध कलाकार 397 19  
**कलागुरु**  
 सिद्ध कलाकार 397 19  
**कलाधी**  
 कलछी 681 5  
 कलाई 149 10  
**कला ज्ञान**  
 कला मर्मज्ञता 398 1  
**कला ज्ञानी**  
 कला मर्मज्ञ 398 8  
**कलात्मक**  
 कलापूर्ण 402 3  
**कलात्मकता**  
 कलापूर्णता 402 1  
**कला दर्शक होना**  
 कला उपभोग करना 399 17  
**कलादा**  
 जीन सूची 595.48  
 महावत सीट 595 46  
**कला दीर्घा**  
 धित्रशाला 669 12  
**कला देवी**  
 कला देवी 397.2 ⇨  
 सरस्वती 775 8  
**कलाधर**  
 चद्रमा 8 2  
 शिव 767 1  
**कलानाथ**  
 चद्रमा 8.2  
**कलानिधि**  
 चद्रमा 8.2  
**कलानुभूति**  
 कलानुभूति 399.12 ⇨  
**कलाप**  
 करधनी 228 7  
 डेर 686 6  
 पूला 686 19  
 बाण 926 16  
 महावतः पदाश्रय 596.21  
 मोरः पूँछ 151 13  
 समूह 690.1  
**कलापक**  
 मोती माला 228.33  
 समूह 690.1



**कलापिनी**  
नागर मोथा 281 22  
मादा मोर 126 69  
रात 48 1

**कलापी**  
कोयल 126 21  
बरगद 13 16  
मोर 126 68

**कलापूर्ण**  
कलापूर्ण 402 3 ⇨

**कलापूर्णता**  
कलापूर्णता 402 1 ⇨

**कला प्रदर्शनलय**  
चित्रशाला 669 12

**कला प्रवणता**  
रचनाशीलता 527 3

**कला प्रेमी**  
कला प्रेमी 400 17 ⇨

**कलाबन्धु**  
कलाबन्धु 569 14

**कलाबन्धु**  
कलाबन्धु 569 14 ⇨

**कलाबन्धु काम**  
सलमा सितारा काम 577 18

**कलाबन्धु झालर**  
किरन 571 42

**कलाबा**  
महावत पदाश्रय 596 21

**कलाबाज़**  
कलाबाज़ 1086 15 ⇨

**कलाबाज़ी**  
कलाबाज़ी 1086 14 ⇨

**कलाबाज़ी खाना**  
कलाबाज़ी खाना 1086 13 ⇨

**कलाबाती**  
कलाबाज़ी 1086 14

**कलाम**  
उक्ति 434 1  
काव्य कृति 451 15  
वचन 339 15  
याथा 299 1

**कलामय**  
कलापूर्ण 402 3

**कला मर्मज्ञ**  
कला मर्मज्ञ 398.8 ⇨

**कला मर्मज्ञता**  
कला मर्मज्ञता 398 1 ⇨

**कलामे पाक**  
कुरान 739.2

**कलामे मजीद**  
कुरान 739.2

**कलामे मुल्साह**  
कुरान 739 2

**कलाय**  
मटर 189.31

**कलार [कलारिन]**  
मद्य निर्माता 209.29

**कला रसिक**  
कला प्रेमी 400 17

**कला रुचि संपन्न**  
कला प्रेमी 400 17

**कलाल**  
मद्य विक्रेता 209 31

**कलाल [कलालिन]**  
मद्य निर्माता 209 29

**कलाली**  
मद्य विक्रय 209 30

**कलावंत**  
राग गायक 460 38

संगीतज्ञ 457 3  
सिद्ध कलाकार 397 19

**कलावंत [कलावंती]**  
कलाकार 397 16

**कलावा**  
कलावा 569 23 ⇨

**कलाविद**  
कलाकार 397 16

**कला विधा**  
कला विधा 397 13 ⇨

**कला वीथी**  
चित्रशाला 669 12

**कला शैली**  
कला शैली 397 14 ⇨

**कला शैली (दे.)**  
कार्य विधि 514 1

**कला समालोचक**  
समीक्षक 398 5

**कला समीक्षक**  
समीक्षक 398 5

**कला समीक्षा**  
कला समीक्षा 398 3 ⇨

**कला सिखाना**  
प्रशिक्षित करना 321 33

**कला सूची**  
कला सूची 397.12 ⇨

**कला सृजन**  
कला कर्म 397 15

**कला सृजनशीलता**  
रचनाशीलता 527 3

**कलाहीन**  
असम्य 734 14

**कलाहीन**  
कलाहीन 403 4 ⇨

**कल्पनाहीन**  
कल्पनाहीन 308 16

**कलाहीनता**  
कलाहीनता 403.1 ⇨

**कल्पनाहीनता**  
कल्पनाहीनता 308 7

**कलिंग**  
उड़ीसा 28 15  
दैत्य सूची 783 19

बरगद 13 16  
राग रागिनी सूची 457.24

लहटोरा 126 70  
शिरीष 13.21

**कलिंगक**  
तरबूज 190.21

**कलिंगका**  
राग रागिनी सूची 457 24

**कलिंग**  
घटाई 593 49

**कलि**  
कलह 708 1  
कलियुग 40 15

**कलि (पौसे में एक का अंक)**  
एक उपमान सूची 948 18

**कलिका**  
कली 115 5

खड 938 1

**कलिका (प्र)**  
कोशिका 129 3

**कलि काल**  
कलियुग 40 15

**कलि कालीन**  
कलियुगीन 40 20

**कलियुग**  
कलियुग 40 15

**कलित**  
अलकृत 227 4

जुड़ा [जुड़ी] 954 13  
पुष्पित 118 14

सुंदर 157 7

**कलिया**  
रसेदार मास व्यजन 206 31

**कलियाना**  
पंखोद्भव होना 151 14

पुष्पित होना 118 8

**कलियुग**  
कलियुग 40 15 ⇨

**कलियुग अंतक अवतार**  
कल्कि अवतार 769 14

**कलियुगी**  
कलियुगीन 40 20

दुर्जन 818 5  
**कलियुगीन**  
कलियुगीन 40 20 ⇨

**कलियुगीय**  
कलियुगीन 40 20

**कलिल**  
विशाल सख्या 949.5

संयुक्त 1010 22  
सघन 81 15

**कलिहारी [कलिहारिन]**  
मद्य निर्माता 209 29

**कलींदा**  
तरबूज 190 21

**कली**  
आरंभिक अवस्था सूची 994 23

कटोरी कली 585.69  
कली 115.5 ⇨

कली घुना 290.23  
पहला छोटा पंख 151.3

लौंग 228.24  
शुंखला: कड़ी 569 27

**कली घुना**  
कली घुना 290 23 ⇨

**कलीतनय**  
नर भैस 127 20

**कली निकलना**  
पुष्पित होना 118 8

**कलीसा**  
गिरजाघर 745 20

**कलीसाई**  
ईसाई धर्मावलंबी 736 17

**कलीसिया**  
गिरजाघर 745 20

**कलुक्का**  
सराय 1090 33

**कलुष**  
अपराध 861.1

धब्बा 217 2  
पाप 812 1

पापपूर्ण 812 11  
पापी 812 12

लाघन 843 7

**कलुषता**  
कालिमा 289 12

**कलुषा**  
दुर्घरित्रा 811 6

**कलुषित**  
कुख्यात 848 4

दुर्घरित्र 811 5  
मलिन 217 6

लाघित 843 23

**कलूटा [कलूटी]**  
काला 789 37

**कलेऊ**  
उपाहार 200 1

प्रातः उपाहार 200 2

**कलेजा**  
कलेजी 206 29

फुफफुस 146 2  
यकृत 148 7

लाड़ा [लाड़ी] 721 15  
यक्ष 146 1

साहस 394 1  
हृदय 146 5

**कलेजा कटना**  
हृदय भंजित होना 391.22

**कलेजा छलनी होना**  
कटाक्ष लगना 844.8

**कलेजा छिबना**  
कटाक्ष लगना 844.8

हृदय भंजित होना 391 22

**कलेजा टूटना**  
साहस टूटना 395.17

**कलेजा धक्कना**  
आतंकित होना 395.16

**कलेजा फटना**  
हृदय भंजित होना 391.22

**कलेजा फाड़ कर रोना**  
विलाप करना 386.23

## कलेजा बलियो उछलना

**कलेजा बलियो उछलना**  
अति आनंदित होना 382 12

**कलेजा बहना**  
हृदय भंजित होना 391 22

**कलेजा मुँह को आना**  
उद्विग्न होना 377 7

**बहुत भूखा होना** 180 9

**कलेजी**  
कलेजी 206 29 ⇨  
यकृत 148 7

**कलेजे का टुकड़ा**  
प्रिय पुत्र 718 7  
लाड़ा [लाड़ी] 721 15

**कलेजे की कोर**  
पुत्री 718 10

**कलेजे के पार होना**  
हृदय भंजित होना 391 22

**कलेजे पर साँप लोटना**  
ईर्ष्या होना 709 5

**कलेजे में डालना**  
अत्यधिक लाड़ करना 721 10

**कलेजे से लगाना**  
अत्यधिक लाड़ करना 721 10  
लाड़ करना 721 9

**कलेजर**  
आकार रूप 96/5  
शरीर 139 1

**कलेया**  
उपाहार 200 1  
प्रातः उपाहार 200 2  
यात्रा आहार 199 6

**कलोर**  
गाय बछड़ा 230 14  
युवती 231 9

**कलोरी**  
गाय बछिया 230 15  
युवती 231 9

**कलौजी**  
कलौजी 281 12 ⇨

**कलीस**  
कालिख 106 18  
कालिमा 289 12  
स्याही 416 25

**कल्क**  
कलह 708 1  
तलछट 526 7  
पीठी 192 13  
भल 214 1  
शत्रुता 706 1

**कल्कि**  
कल्कि अवतार 769 14  
विष्णु चौबीस अवतार सूची 769 9  
विष्णु दस अवतार सूची 769 8

**कल्कि अवतार**  
कल्कि अवतार 769 14 ⇨

**कल्कि: आवास**  
कल्कि आवास 769 18 ⇨

**कल्किद (प्र)**  
कौलोड़ 1008 11

**कल्किद अवस्था**  
कल्किद अवस्था 79 7 ⇨

**कल्किदता**  
कल्किद अवस्था 79 7

**कल्कि. पत्नी**  
कल्कि पत्नी 769 17 ⇨

**कल्कि: पिता**  
कल्कि पिता 769 15 ⇨

**कल्कि. माता**  
कल्कि माता 769 16 ⇨

**कल्की**  
कल्कि अवतार 769 14  
पापी 812 12

**कल्चई पल**  
कल्चई पल 97 3 ⇨

**कल्चई पल**  
कल्चई पल 97 3

**कल्प**  
कल्प 40 6 ⇨  
युग 40 1  
वेदांग सूची 740 41

**कल्प: 1/14**  
मन्वन्तर 40 9

**कल्पक**  
कल्पना कर्ता 308 17  
प्रकल्पक 527 21  
रचेता 527 14

**कल्पतरु**  
कल्पवृक्ष 13 29

**कल्पद्रुम**  
कल्पवृक्ष 13 29

**कल्पन**  
कल्पना कर्म 308 6  
कूटकरण 98 6  
गढ़ाई 545 4  
प्रसस्करण 527 7

**कल्पना**  
अटकल 947 3  
अनुमान 308 8  
आंतरिक ज्ञान 305 4  
आरंभिक अवस्था सूची 994 23  
कथा कृति 450 3  
कल्पना 308 1 ⇨  
काव्य बिंब 454 11  
दिया स्वप्न 267 2  
नई कल्पना 308 2  
परिकल्पना 520 5  
बिंब विधान 454 12  
भ्रम दर्शन 342 3  
विचार 330.1  
स्वप्न 267 1

**कल्पना करना**  
कल्पना करना 308 10 ⇨  
दिया स्वप्न देखना 267 7

**कल्पना कर्ता**  
कल्पना कर्ता 308 17 ⇨

**कल्पना कर्म**  
कल्पना कर्म 308 6 ⇨

**कल्पनाकार**  
परिकल्पक 520 19  
भविष्यवादी 344 10

**कल्पना के घोड़े**  
दिया स्वप्न 267 2

**कल्पना के घोड़े दौड़ाना**  
दिया स्वप्न देखना 267 7

**कल्पनागत**  
काल्पनिक 308 18

**कल्पनाजन्य**  
काल्पनिक 308 18

**कल्पनातीत**  
कल्पनातीत 944 10 ⇨  
प्रत्याशातीत 944 9

**कल्पनातीतता**  
कल्पनातीतता 944 4 ⇨

**कल्पनात्मक**  
कल्पनापूर्ण 308 14

**कल्पना दर्शन**  
विलक्षण दर्शन 342.8

**कल्पनापूर्ण**  
कलापूर्ण 402 3  
कल्पनापूर्ण 308 14 ⇨

**कल्पनापूर्णाता**  
कलापूर्णता 402 1

**कल्पना प्रदर्शन**  
परिकल्प प्रदर्शन 520 7

**कल्पना प्रवण**  
कल्पनाशील 308 15

**कल्पना प्रसूत**  
काल्पनिक 308 18

**कल्पना में आना**  
कल्पना में आना 308 11 ⇨

**कल्पनाशील**  
कल्पनाशील 308 15 ⇨  
रघनाशील 527 15

**कल्पनाशीलता**  
रघनाशीलता 527 3

**कल्पना सृष्टि**  
दिया स्वप्न 267 2

**कल्पना से परे**  
कल्पनातीत 944 10

**कल्पना से बनाना**  
कल्पना से बनाना 308 12 ⇨

**कल्पनाहीन**  
अकाव्यात्मक 451 30  
कल्पनाहीन 308 16 ⇨

**कल्पनाहीनता**  
कल्पनाहीनता 308.7 ⇨

**कल्पवृक्ष**  
कल्पवृक्ष 13 29 ⇨  
शिव 767 1  
स्वर्ग वृक्ष सूची 13 28

**कल्पसूत्र**  
सूत्र ग्रंथ 740 48

**कल्पादि**  
शिव 767 1

**कल्पित**  
काल्पनिक 308 18  
कूटकृत 98 14  
परिकल्पित 520 18  
रचित 527 12

**कल्पित खिलाड़ी**  
कल्पित खिलाड़ी 475.6 ⇨

**कल्पित मात्रा**  
कल्पित मात्रा 946.5 ⇨

**कल्पिन कहानी**  
कथा कृति 450 3

**कल्प्य**  
गढ़नीय 545 30

**कल्प्यता**  
गढ़नीयता 545 15

**कल्पष**  
दुश्चरित्र 811 5  
पाप 812 1  
मस्तिन 217 6

**कल्पषा**  
दुश्चरित्रा 811 6

**कल्पषा**  
धम्मा 217 2  
पिशाच 786 8  
राक्षस-784 1

**कल्पषकंठ**  
शिव 767 1

**कल्पषी**  
यमुना 20 18

**कल्प**  
कल्याण कामना 710 4

**कल्याण**  
कल्याण 710 2 ⇨  
राग रागिनी सूची 457 24  
समृद्धि 626 1  
सुरक्षा 908 4  
सौभाग्य 260 17

**कल्याण (दे.)**  
उपकार 832.1  
हित 712 1

**कल्याण अकल्याण**  
कल्याण अकल्याण 710.1 ⇨

**कल्याणकर**  
सुखद 390 11

**कल्याण कर्ता**  
परोपकारी 832 12

**कल्याण कर्म**  
सत्कर्म 814 2

**कल्याणकाम**  
कल्याण कामी 710 23

**कल्याण कामना**  
कल्याण कामना 710.4 ⇨  
शुभ आरंभ: कृत्य सूची 521.3

**कल्याण कामना करना**  
कल्याण कामना करना 710.15 ⇨

<b>कल्याण कामी</b>	<b>कल्लौच</b>	<b>कवन</b>	विद्वान व्यक्ति 319 2
कल्याण कामी 710 23 ⇨	गुंडा 811 7	कौन 316 1	विष्णु 768 1
<b>कल्याण कामी [कल्याण कामिनी]</b>	<b>कल्ला</b>	<b>कवयिता [कवियित्री]</b>	शिव 767 1
कल्याण कामी 710 23	अकुर 113 1	कवि 448 13	शुक्राचार्य 789 23
<b>कल्याणकामी (दे.)</b>	जबड़ा 140 17	<b>कवर</b>	सूर्य 8 1
हितैषी 712 14	नव पल्लव 115 2	खचित 406 42	<b>कविकुल गुरु</b>
<b>कल्याणकारिता</b>	नीचे का जबड़ा अस्थि 133 10	जूड़ा 223 14	अच्छा कवि 448 15
कल्याणकारिता 710 3 ⇨	पल्लवाकुर 113 3	वेणी 223 17	<b>कविज्येष्ठ</b>
<b>कल्याणकारी</b>	पेड़ पीधा क्लम 113 7	<b>कवर (अँ)</b>	अच्छा कवि 448 15
कल्याणकारी 710 21 ⇨	<b>कल्लातोड़ जवाब</b>	आच्छाद 593 1	वाल्मीकि 789 19
समृद्धिप्रद 626 12	करारा उत्तर 334 2	गिलाफ 675 5	<b>कविता</b>
<b>कल्याणकारी (दे.)</b>	<b>कल्लादराज</b>	वादर 593 17	अतिशयोक्ति 434 4
हितकारी 712 13	मुंहजोर 708 15	जिल्द 418 1	कविता 451 16 ⇨
<b>कल्याणकारी होना</b>	वाचाल 428 22	जिल्द सूची 418 5	काव्य 451 7
कल्याणकारी होना 710 14 ⇨	<b>कल्लादराजी</b>	पिधान 675 3	काव्य कृति 451 15
<b>कल्याण पालक</b>	मुंहजोरी 708 8	पुस्तक आवरण 418 6	पद्य 451 4
योगक्षेम कर्ता 710 26	वाचालता 428 5	<b>कवर (अँ)</b>	<b>कविता कर्मी</b>
<b>कल्याणपूर्ण</b>	<b>कल्ले</b>	लिफाफा 444 11	कवि 448 13
कल्याणपूर्ण 710 20 ⇨	नव रोम 135 2	<b>कवर उतारना</b>	<b>कविता कामिनी</b>
<b>कल्याणप्रद</b>	<b>कल्लौल</b>	अधिधानित करना 675 16	काव्य 451 7
कल्याणकारी 710 21	ऊँची लहर 1040 19	<b>कवरत्ति</b>	<b>कविता पाठ शैली</b>
<b>कल्याण भ्राति</b>	क्रीड़ा 469 4	लक्षद्वीप राजधानी 28 67	तरनुम 460 22
सुख भ्राति 342 2	लहर 1040 17	<b>कवर पेज</b>	<b>कवितावली</b>
<b>कल्याणमय [कल्याणमयी]</b>	<b>कल्लोलना</b>	कवर पेज 418.7 ⇨	काव्य सकलन 446 24
कल्याणकारी 710 21	क्रीड़ा करना 469 10	<b>कवर पेज (अँ)</b>	<b>कविता संग्रह</b>
<b>कल्याणमस्तु</b>	<b>कल्लोलपूर्ण</b>	आवरण पृष्ठ 447 24	काव्य सकलन 446 24
शुभ आरम्भ उक्ति सूची 521 9	क्रीड़ापूर्ण 469 15	कवर पेज 418 7	<b>कवित्त</b>
शुभमस्तु 710 31	<b>कल्लोलप्रिय</b>	<b>कवरी</b>	कविता 451 16
<b>कल्याण रक्षक</b>	क्रीड़ाप्रिय 469 16	जूड़ा 223 14	<b>कवित्वपूर्ण</b>
योगक्षेम कर्ता 710 26	<b>कल्लोलप्रियता</b>	वेणी 223 17	काव्यात्मक 451 29
<b>कल्याण सूचक</b>	क्रीड़ाप्रियता 469 5	<b>कवल</b>	<b>कवित्वहीन</b>
कल्याण सूचक 710 22 ⇨	<b>कल्लोलिनी</b>	ग्राम 181 26	अकाव्यात्मक 451 30
<b>कल्याण हो</b>	नदी 20 1	<b>कवनान</b>	<b>कवि दरबार</b>
शुभमस्तु 710 31	<b>कल्यर्ट (अँ)</b>	ग्रसन 181 9	कवि सम्मेलन 694 10
<b>कल्याण होना</b>	पुलिया 1065 7	पूर्ण भक्षण 181 11	<b>कवि प्रशंसा</b>
कल्याण होना 710 13 ⇨	<b>कव-</b>	भोजन कर्म 181 4	प्ररोचना 468 23
<b>कल्याणाकल्याण</b>	बुरा उपसर्ग सूची 314 11	<b>कवलन कर्ता</b>	<b>कवि प्रसिद्धि</b>
कल्याण अकल्याण 710 1	<b>कवक</b>	ग्रसन कर्ता 181 55	कवि सत्य 424 16
<b>कल्याणात्मक</b>	कुकुरमुत्ता 189 13	<b>कवलित</b>	<b>कविरत्न</b>
कल्याणपूर्ण 710 20	<b>कवध</b>	पूरा श्रित 181 63	अच्छा कवि 448 15
<b>कल्याणी</b>	उत्तल सूची 985 21	<b>कवलित करना</b>	<b>कविराज</b>
गाय 127 10	कवध 921 2 ⇨	पूरा खा जाना 181 34	अच्छा कवि 448 15
दुर्गा 776 7	गंडा तावीज़ 759 4	<b>क्रवायद</b>	घारण 841 13
नवकुमारी सूची 774.29	<b>कवधधारी</b>	अभ्यास 303 5	वैद्य 172 8
युवती 231.9	कवधधारी 921 15 ⇨	ड्रिल 1083 6	<b>कविराय</b>
राग रागिनी सूची 457 24	<b>कवध यान</b>	मार्च 1083 11	अच्छा कवि 448 15
सुन्दर स्त्री 157 2	टेक 1070 17	विधि संहिता 878 6	<b>कवि सत्य</b>
<b>कल्याणी [कल्याणिनी]</b>	<b>कवध वासी जीव</b>	व्याकरण 425 1	कवि सत्य 424 16 ⇨
कल्याणकारी 710 21	कवध वासी जीव 124 13 ⇨	सैनिक अभ्यास 907 30	कवि सत्य 820.4 ⇨
समृद्ध 826 11	<b>कवधायली</b>	<b>क्रवायद मैदान</b>	<b>कवि समय</b>
सूची 390.10	त्वधा स्तर सूची 134 7	कवायद मैदान 1063.30 ⇨	कवि सत्य 424 16
सीमाग्यशाली 260 33	<b>कवधित</b>	<b>कवि</b>	<b>कवि सम्मेलन</b>
<b>कल्याण</b>	कवधधारी 921 15	ऋषि 789 2	कवि सम्मेलन 694.10 ⇨
प्रातः उपाहार 200 2	<b>कवधित यान</b>	कवि 448.13 ⇨	<b>कवि सप्ताह</b>
<b>कल्लर</b>	कवधित यान 921.13 ⇨	ब्रह्म 764 24	अच्छा कवि 448 15
अनुर्वर (भूमि) 552 17	<b>कवधी</b>	ब्रह्मा 766 1	<b>कवीदु</b>
ऊसर 552 3	कवधधारी 921 15	ब्रह्मा पुत्र सूची 766 10	वाल्मीकि 789 19
	कवध वासी जीव 124 13	वाल्मीकि 789 19	

## कवींद्र

### कवींद्र

अच्छा कवि 448 15

### कव्य

भाद्र पिंड 253 23

### कव्याली

इसलामी पूजा गीत सूची 749 27

कव्याली 452 19 ⇐

### कश

कर्षण 1051 7

कश 213.15 ⇐

फूक 245 12

### -कश (जैसे: रस्साकश)

कर्षण कर्ता 1051 37

### कश खींचना

कश लगाना 213 30

### कश भरना

कश लगाना 213 30

### कशापकश

खींचतान 708 4

दुबिधा 501 1

बहुविध प्रयत्न 489 3

सघर्ष 905 1

### कशमकशे हयात

जीवन संघर्ष 905 2

### कशमीर

कशमीर 28 31

### कश लगाना

कश लगाना 213 30 ⇐

### कश लेना

कश लगाना 213 30

### कशा

घाबुक 555 23

रस्ती 570 5

### कशामु

आहार पदार्थ 186 1

तकिया 593.63

शख 461 78

### कशिश

आकर्षण 1050 10

आसक्ति 365 1

सुदरता 157.1

### कशी

कर्षण 1051 7

### कशीद

निष्कर्षण 83.1

निष्कर्षित 83 14

### कशीदगी

वैमनस्य 706 10

### कशीदा

कड़ाई काम 577 14

कड़ाईदार 577 31

### कशीदाकार

कड़ाई कर्मी 577 13

### कशीदाकारी

कड़ाई कर्म 577 12

### कशोरुक

रीक. कशोरुक 133 15

### कशोरुका

रीक 133 14

### कशरुका

तिलक 225 19

### कशिधत्-

कोई 316 7

### कशती

नीका 1072 2

### कश्मल

आसक्ति 365 1

उत्साहहीनता 492 1

पाप 812 1

### कश्मीर

कश्मीर 28.31 ⇐

### कश्मीर घाटी

कश्मीर 28 31

### कश्मीरज

केसर 274 16

### कश्मीरी

भारत राष्ट्रभाषा सूची 421 4

### कश्मीरी मिर्च

देगी मिर्च 278 5

### कश्य

मद्य 209 1

### कश्यप

आदित्य पिता 777 2

ऋषि मुनि सूची 789 17

कपुआ 123 2

वैनतेय पिता 777.12

शिव 767 1

### कश्यप (अवतार)

यसुदेय 771 86

### कश्यप (पुराण)

मरुत पिता 781 2

### कश्यप-अरिष्टाः पुत्रियाँ

अप्सरा 782 2

### कश्यप नंदन

गरुड़ 777 15

### कश्यपः पत्नी

ग्रहमवादिनी 787 5

### कश्यपः पुत्री

सिंहिका 783 24

### कश्यप-विनताः संतान

वैनतेय 777 11

### कश्

मानदंड 957 5

सान 559 34

सान धराई 564 7

### कश्ण

खुरघाई 542 7

घर्षण 541 1

### कशाय

आदेश 371 1

आसक्ति 365 1

काड़ा 208 19

गेरुआ 289 43

मदता 1045 1

मलिनता 217 1

षड् स्वाद सूची 275.3

### कषायता

कसीलापन 276.2

### कषाय स्वाव

कसीलापन 276.2

### कषायी

आविष्ट 371 8

आसक्त 365 5

कसीला [कसीली] 278 9

### कष्ट

असुविधा 519 3

कष्ट 392 1 ⇐

ग्रहबाधा 261 26

दंड 870 1

दुःख 391 1

परिश्रम 493 1

मनोव्यथा 391 7

यत्रणा 391.13

रोग 163 1

शारीरिक पीड़ा 392 4

संकट 909.1

### कष्टः अंत

राहत 171 12

### कष्टकर

असुविधापूर्ण 519 19

कठिन 519.18

पीड़ाप्रद 392 26

### कष्ट कल्पना

दुरारुढ़ कल्पना 308 4

### कष्ट काव्य

धित्रालंकार 454 7

### कष्टग्रस्त

कष्टग्रस्त 392 21 ⇐

दयनीय 834 16

### कष्ट देना

उत्पीड़ित करना 391 20

कष्ट देना 392 16 ⇐

### कष्ट धाम

दुःख धाम 391.3

### कष्ट ध्वनि

हाय 386 12

### कष्ट पाना

दुःखी होना 391.18

### कष्टप्रद

कष्टप्रद 392.22 ⇐

पीड़ाप्रद 392.26

संकटप्रद 909.20

### कष्ट मातुल

सीतेला मामा 722 41

### कष्ट मितना

राहत मिलना 171 18

### कष्ट मिटाना

संकट दूर करना 910.6

### कष्ट मोचक

संकट मोचक 910.10

### कष्टमोचन

संकट मोचक 910.10

### कष्ट मोचन

संकट मोचन 910.1

### कष्ट शय्या

कटक शय्या 594 2

### कष्टसाध्य

कठिन 519 18

### कष्टसाध्यता

कठिनता 519 1

### कस

कर्षण 1051 7

कस 192.10 ⇐

कैसे 514 20

धीयाकस 560 12

परिश्रम 493 1

सार 84 16

### कसक

आनुवंशिक शत्रुता 706 4

कराह 386 5

टीस 392 13

लालसा 359 5

कसकता [कसकती]

टीसता [टीसती] 392 29

### कसकना

कराहना 386 19

टीसना 392 19

### कस कर

अति परिश्रम पूर्वक 493 15

बलिष्ठता 160 16

### कसन

कर्षण 1051 7

कसन 1013.4 ⇐

क्लेश 392 3

प्रथि सुदृढ़न 573.2

संकुचन 980 9

### कसना

अति परिश्रम करना 493.7

कटाक्ष करना 844 7

कष्ट देना 392.16

कसन 1013.18 ⇐

कसीटी पर कसना 566.15

धीयाकस से कसना 540.10

जोतना 1079 17

परीक्षा करना 322.33

पेथ कसना 1016 41

यत्रणा देना 391.21

वशाधीन करना 901.6

संकुचित करना 980.16

संकुचित होना 980.15

समीक्षा करना 398.7

### कसब

वैश्या वृत्ति 807.2

### कसबा

कसबा 620.6 ⇐

### कसबाई

कसबाई 620.21 ⇐

### कसबाती

कसबाई 620.21

लघु नगर वासी 616.26

- कसबिन**  
वेश्या 807 5
- कसबीखाना**  
वेश्या महल्ला 807 12
- कसबीखाना**  
वेश्यालय 807 13
- कसम**  
आन 349 3  
प्रतिज्ञा 339 17  
शपथ 339 20
- कसम उठाना**  
शपथ लेना 339 31
- कसम खाना**  
शपथ लेना 339 31
- कसम खाने को**  
अत्यल्पत 942 24
- कसमन**  
शपथपूर्वक 339 53
- कसम लेना**  
शपथ लेना 339 31
- कसमसाता [कसमसाती]**  
आतुर 496 11  
उद्धिन 377 13  
कुलबुलाला [कुलबुलाली] 392 23
- कसमसाना**  
उद्धिन होना 377 7  
कुलबुलालाना 392 17
- कसमसाहट**  
आतुरता 496 3  
उद्धिनता 377 4  
कुलबुलालाहट 392 2
- कसम से**  
शपथपूर्वक 339 53
- कसमिया**  
शपथपूर्वक 339 53
- कसर**  
अपर्याप्तता 942 3  
भूल 498.3  
लक्ष्य चूक 931 12  
विकार 536 1  
हानि 646 7
- कसरत**  
अधिकता 944 1  
झिल 1083 6  
परिश्रम 493 1  
व्यायाम 485.1
- कसरत से**  
अत्यधिकतः 944 12  
अधिकतः 944 11
- कसरती**  
कसरती 160.14 ⇨
- कसरती शरीर बाला**  
कसरती 160 14
- कसर निकालना**  
क्षति पूर्ति करना 634.23  
प्रतिशोध लेना 873.8
- कसर रह जाना**  
लक्ष्य च्युत होना 931.19
- कसरहट्टा**  
बरतन बाजार 663 18
- कसा**  
पेचित 1010 18
- कसा [कसी]**  
कसा [कसी] 1013 25 ⇨  
तग [परिधान] 583 27  
परीक्षित 322 37  
सुगठितकाय 160 13
- कसाई**  
अत्याचारी 835 13  
कसन 1013 4
- कसाई**  
कसाई 206 43 ⇨
- कसाई**  
कसीटी कर्म 566 7  
ग्रथि सुदृढन 573 2
- कसाई**  
जल्लाद 871 17  
भास विक्रेता 206 41
- कसाई खाना**  
कसाई घर 206 42
- कसाई घर**  
कसाई घर 206 42 ⇨
- कसाई धिड़िया**  
लहटोरा 126 70
- कसा जाना**  
सकुचित होना 980 15
- कसापन**  
ग्रस्तता 1013 2  
सुगठित कायता 160 6
- कसार**  
कसार 192 11 ⇨
- कसालत**  
शिथिलता 1045 6  
स्फूर्तिहीनता 492 3
- कसाला**  
अति परिश्रम 493 3
- कसाले की कमाई**  
सश्रम आय 643 2
- कसाले से**  
अति परिश्रम पूर्वक 493 15
- कसाय**  
कर्षण 1051 7
- कसियाना**  
कसीला लगना 276 5  
कसीला होना 276 6
- कसियाया [कसियाई]**  
कसियाया [कसियाई] 197 44 ⇨  
कसीला [कसीली] 276 9
- कसियाय**  
कसीलापन 276 2
- कसियाहट**  
कसीलापन 276.2
- कसीदा**  
कसीदा 452.20 ⇨  
प्रशंसा गीत 841 6
- कसीदाखी**  
प्रशंसा गायक 841 11
- कसीदागोई**  
प्रशंसा गायन 841 10
- कसीस**  
कसीस 214 7 ⇨
- कसूर**  
अपराध 861 1
- कसूरवार**  
अपराधी 861 14
- कसेरा**  
कास्यकार 680 31
- कसेरा [कसेरिन]**  
कास्यकार 680 31
- कसेला [कसेली]**  
कसियाया [कसियाई] 197 44  
कसीला [कसीली] 276 9 ⇨
- कसेलापन**  
कसीलापन 276 2 ⇨
- कसेला लगना**  
कसीला लगना 276 5 ⇨
- कसेला होना**  
कसीला होना 276 6 ⇨
- कसोरा**  
कटोरा 683 1  
सकोरा 683 10
- कसीटी**  
कला समीक्षा 398 3  
कसीटी कर्म 566 7  
कसीटी पत्थर 566 9  
परीक्षा 322 11  
मानदंड 957 5  
शिक्षा परीक्षा 322 13  
समीक्षा मापदंड 398 4
- कसीटी कर्म**  
कसीटी कर्म 566 7 ⇨  
कसीटी कर्म 566 14 ⇨
- कसीटीकार**  
कसीटीकार 566.8 ⇨  
परामर्श 322 15
- कसीटी पत्थर**  
कसीटी पत्थर 566 9 ⇨
- कसीटी: पत्थर**  
बसाल्ट 99 6
- कसीटी पर कसना**  
कसीटी पर कसना 566.15 ⇨  
परीक्षा करना 322 33
- कस्टमी (अँ)**  
बंदीकरण 868 1
- कस्टम (अँ)**  
कर 647 2  
तट कर 647 19
- कस्टम चौर**  
चुगी तस्कर 864.42
- कस्टम चोरी**  
चुगी तस्करी 864.41
- कस्टमर (अँ)**  
ग्राहक 680.13
- कस्तरी**  
कस्तरी 682 9 ⇨  
दूध घड़ा 679 11  
पाक भांड सूची 682 2
- कस्तूर**  
कनस्तर 679 40
- कस्तूर**  
कस्तूरक 126 18  
गायक पक्षी सूची 126 9
- कस्तूरक**  
कस्तूरक 126 18 ⇨
- कस्तूरी**  
कस्तूरी 274 15 ⇨
- कस्तूरी मृग**  
कस्तूरी हिरन 127 45
- कस्तूरी हिरन**  
कस्तूरी हिरन 127 45 ⇨
- कसबा**  
कसबा 620 6
- कस्मिन्बिद् काले**  
सुदूर भूत मे 36 32
- कस**  
भिन्न सख्या 949.16  
लक्ष्य चूक 931 12
- कस्साब**  
कसाई 206 43
- कस्सी**  
फावड़ा 559 24
- कहँ**  
कहाँ 30 1
- कहकशी**  
आकाश गंगा 1 14
- कहकहा**  
अट्टहास 384 2
- कहकहा लगाना**  
अट्टहास करना 384 8
- कहगिल**  
भूसा गारा 100 10
- कहत**  
दुर्भिक्ष 627 4
- कहतसुनत**  
तकरार 708 7
- कहते कहते**  
शीघ्रत 496 13
- कहते कहते रुकना**  
मीन होना 429 14
- कहना**  
अभिव्यक्ति करना 428 9  
आज्ञा 347 1  
उक्ति 434 1
- कहना 430 11 ⇨**  
नियेदन करना 350 10  
प्रतिज्ञा करना 339 29  
प्रतिपादन करना 326 7  
वक्तव्य देना 441 17  
वचन 339 15  
वचन देना 339.27  
वार्तालाप करना 435.16

## कहना बदना

सम्बोधित करना 430 15

### कहना बदना

चुनौती देना 917 4

### कहना सुनना

अनुरोध करना 350 12

गाली गलीज करना 433 7

मनाना 374 13

सीख देना 332 12

### कहनी

उक्ति 434 1

यचन 339 15

### कहने का

तथाकथित 821 21

### कहने को

अत्यल्पत 942 24

### कहने भर का

तथाकथित 821 21

### कहने भर को

अत्यल्पत 942 24

तथाकथित 821 24

### कहने योग्य

कथनीय 430 17

### कहने लायक

वर्णनीय 449 25

### कहने वाला

कथन कर्ता 430 18

### कह बंद कर

चुनौतीपूर्वक 917 11

शपथपूर्वक 339 53

### क्रहर

अत्याचार 835 3

राकट 909 1

### क्रहर बरपा होना

महान सकट आना 909 18

### कहरवा

राग गायन शैली सूची 460 39

### क्रहरी

सकटप्रद 909 20

### कहल

सीसा 94 14

### क्रहया

कहया 208.18 ⇨

### कहाँ

कहाँ 30 1 ⇨

किधर 30 2

### कहाँ पर

किधर 30 2

### कहा

आज्ञा 347 1

उक्ति 434 1

उपदेश 430 9

क्या 316 2

प्रतिज्ञा 339 17

यचन 339 15

### कहा [कहीं]

कथित 430 16

### कहा कर दिखाना

प्रतिज्ञा पूरी करना 339 30

### कहा करना

आज्ञा पालन करना 347 11

प्रतिज्ञा पूरी करना 339 30

### कहाकही

तकरार 708 7

### कहानी

कथा कृति 450 3

घटना चक्र 75 4

छोटी कहानी 450 10

लोक कथा 450 7

### कहानी कथन

कथा वाचन 399 10

### कहानीकार

कथाकार 448 10

### कहानी लेखक

कथाकार 448 10

### कहार

कुली 1061 4

पालकी वाहक 1082 21

### कहार [कहारिन]

पनहार 19 25

### कहारा

टोकरा 677 1

### कहावत

कहावत 424 12 ⇨

लोक कथा 450 7

### कहा सुना

गाली गलीज 433 4

### कहासुनी

तकरार 708 7

### कहीं

अन्यत्र 30 9

काश 375 12

संभवत 68 19

कहीं ऐसा तो नहीं

संभवत 68 19

कहीं ऐसा हो

काश 375 12

### कहीं और

अन्यत्र 30 9

### कहीं कहीं

अल्पदा 72 10

असामान्यत 312 19

दुर्लभत 942 25

कहीं कहीं छपा कड़ा बूटा फूल

बूटा 578 15

### कहीं का होना

निवासी होना 616 12

### कहीं न जाना

निरचल रहना 1038 6

### कहीं न टिकना

घलित्थु होना 1090 38

### कहीं भी

घतुर्दिशत 29 36

### कहीं

उक्ति 434.1

यचन 339 15

### कही सुनी

गाली गलीज 433 4

### कहूँ

कहाँ 30 1

### कहे से मुकरना

मुकरना 338 25

### कहो राम

आर्तनाद 386 3

### क्रह ढाना

अत्याचार करना 835 6

### क्रह बरपा करना

अत्याचार करना 835 6

### क्रहे इलाही

ईश्वरीय सकट 909 4

### कौंकर

ककड़ 938 35

ककड़ी 938.36

### कौंकरिया

ककड़ी 938 36

### कौंकरी

ककड़ी 938 36

### कांकिणी

कौड़ी 629 10

सस्ती वेश्या 807 8

### कांक्षणीय

इच्छनीय 359 20

### कांक्षा

इच्छा 359 1

महत्त्वाकांक्षा 508 3

### कांक्षा कथन

कुठा मोचन 352 12

### कांक्षिका

मनसिजा 352 5

### कांक्षित

इच्छित 359 19

### कांक्षी

इच्छुक 359 21

### कांक्षोरु

बगला 126 54

### कांक्ष्य

इच्छनीय 359 20

### कांख

पड़ोस 31 3

बगल गड़ढा 147 6

### कांखासोती

उत्तरीय धारण शैली सूची 585 8

### कांग्रेस (अं)

राजनीतिक दल 885 15

सस्था 692 1

### काँच

काँच 283.14 ⇨

काँच पटल 990 4

काच 148 10

लैस 283 4

काँच: अलमारी

शो केस 671.9

काँच गोली

गोली 479 7

### कांचन

धन 628 1

यक्ष सूची 779 3

स्वर्ण 95 4

### कांचन कंदर

स्वर्ण खान 92 16

### कांचनक

हरताल 92 13

### कांचन पुरुष

स्वर्ण मूर्ति 406 15

### कांचनी

हलदी 281 38

### काँच पटल

काँच पटल 990 4 ⇨

### काँच बरतन

काँच बरतन 680 2 ⇨

### काँच बोटल

काँच बोटल 678 4 ⇨

### काँच: भट्टी

काँच भट्टी 109.11 ⇨

### काँच: मनका

कुमकुमा 571 48

### काँचि

माल 1076 28

### काँचिक

काँजी 208 13

### काँचिया

ग्लोसी (प्रिट) 405 7

### कांची

करधनी 228.7

माल 1076 28

### काँची: देवी

कामदेवी सूची 774 22

### काँचीय धातु

सिलखड़ी 99 12

### काँची स्थित ललिता

पराशक्ति 776 21

### काँजिका

काँजी 208 13

### काँजी

काँजी 208 13 ⇨

पनीर जल 193 15

राई 196 19

लावारिस (जानवर) 127 97

### काँजी पानी

काँजी 208 13

### काँजी हाउस

काँजी हाउस 603 22 ⇨

### काँटा

आखेट चारा 252.6

आलपिन 417 5

कटक 115.4

कटलरी सूची 681 14

काँटा 1016.33 ⇨

गॉस 938.12

घड़ी: सूई 50 27

डक 144 12

तराजू 982.9

तराजू कौटा 962.20  
 दीवार खुँटी 1016 17  
 पतली कील 1016.9  
 प्रेम प्रतिद्वंद्वी 368 4  
 फ़ोर्क 681 15  
 मत्स्य अस्थि 133 4  
 मत्स्य आखेट कौटा 252 17  
 लगर 1073 17  
 लीग 228 24  
 साही रोम 135 5  
**कौटा: अनी**  
 गॉस 938 12  
**कौटा कील**  
 पतली कील 1016 9  
**कौटा चौलाई**  
 चौलाई 189 20  
**कौटी**  
 आखेट चारा 252 6  
 धातु मल 214 5  
 फुयडा 569 3  
**कौटे**  
 गरारी दौता 1077 38  
**कौटे का**  
 निर्णयात्मक 328 11  
**कौटे की तोल**  
 ठीक तोल 962 6  
**कौटेदार**  
 कटकयुक्त 115 15  
**कौटेदार झाड़ी**  
 कौटेदार झाड़ी 12 21 ⇨  
**कौटे निकलना**  
 कटकित होना 117 17  
**कौटे पर रखना**  
 तौलना 962.63  
**कौटों पर लोटना**  
 ईर्ष्या होना 709 3  
**कौटों में घसीटना**  
 लज्जित करना 845 8  
**कौटिस्ट (अं)**  
 ठेका 659 13  
**कौटिस्ट (अं)**  
 ठेकेदार 659 14  
**कांड**  
 अध्याय 447 2  
 अपराध. घटना 861.2  
 उँगली पोखवा 150 21  
 खंड 938.1  
 गुच्छा 686 17  
 घटना 75.1  
 डठल 114.1  
 तना 114.7  
 नलाकार अस्थि 133.3  
 समूह 690.1  
 सरकंडा 597 11  
**कांड पट**  
 यवनिका 608.1  
**कांड पटक**  
 क्रनात 605.8

**कांड प्रकांड**  
 शाखा प्रशाखा 114 9  
**कांडारला**  
 राग गायन शैली सूची 460 39  
**कांडी**  
 मछली समूह 690 7  
 लीवर 1062 3  
**कांडीर**  
 धनुषधारी 930 13  
**कांडोल**  
 बॉस बेत टोकरा 677 4  
**कांत**  
 कृष्ण 771 1  
 चंद्रमा 8 2  
 पति 803 5  
 प्रेमी 368 2  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767 1  
 शृंगारी नायक 456 1  
 स्कंद 773 50  
**कांत [कांता]**  
 प्रिय 369 /  
 सुंदर 157 7  
**कांत लोह**  
 इरपात 93 11  
 ढला लोहा 93 9  
 लोह चुबक 1050 9  
**कांतसार**  
 ढला लोहा 93 9  
**कांता**  
 पत्नी 803 6  
 प्रेमपात्रा 369 5  
 प्रेमिका 368 3  
 बड़ी इलायची 281 10  
 शृंगारी नायिका 456 6  
 सुंदर स्त्री 157 2  
**कांतार**  
 अचलनीय मार्ग 1063 3  
 गहन वन 12 7  
 बॉस 597 8  
 वन 12 1  
**कांति**  
 अतरचंद्रता 285 34  
 काव्य गुण सूची 453.4  
 घट्ट कला सूची 8 4  
 दीप्ति 287.16  
**कांतिद**  
 शोभायुक्त 226 11  
**कांतिप्रद**  
 आलोकक 285 46  
**कांतिमान**  
 आलोकित 285.45  
 दीप्त 287.34  
**कांति लोह**  
 लोह चुबक 1050 9  
**कांतिसार**  
 ढला लोहा 93 9

**कांतिहीन**  
 आलोकहृत 280 15  
 धुंधला [धुंधली] 286 17  
 शोभाहीन 226 12  
**कांतिहीनता**  
 धुंधलापन 286 8  
 शोभाहीनता 226 3  
**कांतिहीन होना**  
 धुंधलाना 286 13  
**कांती**  
 बिच्चू डक 144 13  
**कांदय**  
 तला [तली] 195 73  
**कांदयिक**  
 भड़भूजा 195 23  
**काँदा**  
 प्याज़ 281 24  
**काँदो**  
 दलदल 25 28  
**काँधा**  
 आधार सूची 596 2  
 पार्श्व भाग 997 5  
 स्कंध 147 3  
**काँधा देने वाला**  
 शव यात्री 253 36  
**काँधासोती**  
 उत्तरीय धारण शैली सूची 585.8  
**काँप**  
 उदंत 144 5  
 कपन 1039 11  
 कर्णपूर 228 8  
**काँपन [काँपती]**  
 कांपत 1039 20  
 तितुरता [तितुरती] 105 24  
 भय कपित 395 20  
**काँपते**  
 भयभीतत 395 30  
**काँपना**  
 आत्कित होना 395 16  
 कांपना होना 1039 17  
 तितुरना 105 18  
 धैर्य भग होना 395 18  
 भय कपित होना 395 14  
**काँव काँव**  
 काँव काँव 298.9 ⇨  
**काँवर**  
 काँवर 1071 20 ⇨  
**काँवरथी**  
 काँवर यात्री 1089.6  
 कुली 1061 4  
**काँवर पालकी आदि**  
 वहन यान 1071 19  
**काँवर यात्रा**  
 काँवर यात्रा 1089.5 ⇨  
**काँवर यात्री**  
 काँवर यात्री 1089.6 ⇨  
**काँवरिया**  
 काँवर यात्री 1089.6

**काँवरी**  
 काँवर 1071 20  
**काँवोरथी**  
 काँवर यात्री 1089 6  
**काँस**  
 काँस घास 11 7  
**काँस घास**  
 काँस घास 11 7 ⇨  
**काँसा**  
 काँस घास 11 7  
 काँसा 94 2 ⇨  
**काँसाकर**  
 कास्यकार 680 31  
**काँसागर**  
 कास्यकार 680 31  
**काँसागरी**  
 कास्य कर्म 680 30  
**काँसा बरतन**  
 काँसा बरतन 680 13 ⇨  
**काँसार**  
 कास्यकार 680 31  
**काँस्य**  
 धातु बरतन 680 12  
**काँस्यक**  
 पीतल 94 10  
**काँस्य कर्म**  
 काँस्य कर्म 680 30 ⇨  
**काँस्य कर्मी**  
 कास्यकार 680 31  
**काँस्यकार**  
 कास्यकार 680 31 ⇨  
**काँस्य घट**  
 काँस्य घट 679 7 ⇨  
**काँस्य ताल**  
 झोंझ 461 37  
**काँस्यपत्र**  
 सम्मान फलक सूची 857 15  
**काँस्य पात्र**  
 काँसा बरतन 680 13  
**काँस्य मूर्ति**  
 काँस्य मूर्ति 406 13 ⇨  
**काइन हाउस (अं)**  
 काँजी हाउस 603 22  
**काइयीपन**  
 कुटिलता 818 3  
**काउंट डाउन (अं)**  
 विपरीत गणना 850 2  
**काउंटरफ़ीटिंग (अं)**  
 कूटकरण 98 6  
**काउंटरफ़्रीडल**  
 काउंटरफ़्रीडल 415.24 ⇨  
**काउंटरफ़्रीडल (अं)**  
 काउंटरफ़्रीडल 415 24  
**काउंटरमैडिंग (अं)**  
 प्रत्यादेशन 338 11  
**काउंटरमैडिड(अं)**  
 प्रत्यादेशित 338 42

## काउटर वेट (अँ)

**काउटर वेट (अँ)**  
 प्रतिभार 1061 9  
**काउटर साइन (अँ)**  
 प्रति हस्ताक्षर 444.9  
**काउटर साइन्ड (अँ)**  
 प्रति हस्ताक्षरित 444 39  
**काउ लैदर (अँ)**  
 गो चर्म 582 9  
**काओलिन (चीनी)**  
 चीनी मिट्टी 100 15  
**काक**  
 काकल 145 10  
 कौआ 126 22  
 दुर्जन 818 5  
**काकटेल**  
 काकटेल 209 6 ⇨  
**काकटेल पार्टी**  
 काकटेल पार्टी 183 5 ⇨  
**काकटेल पार्टी (अँ)**  
 मद्यपान गोष्ठी 209 23  
**काकटेल्स (अँ)**  
 काकटेल पार्टी 183 5  
**काकदंत**  
 असमव घटना उपमान सूची 75 17  
**काकपक्ष**  
 लट 223 15  
**काकपाली**  
 कोयल 126 21  
**काकपेय**  
 उथला [उथली] 984 8  
 ऊपर तक भरा 1004 13  
**काक फल**  
 निबोली 190 23  
**काक बदरी**  
 मकोय 190 30  
**काकभीरु**  
 उल्लू 126 14  
**काक भुशुडि**  
 काक भुशुडि 770 20 ⇨  
**काकमाथी**  
 मकोय 190 30  
**काकरय**  
 कापुरुष 395 29  
**काकरुहा**  
 परजीवी वनस्पति 111 6  
**काकरोच**  
 काकरोच 122 14 ⇨  
 कीट सूची 122 12  
**काकरोच (अँ)**  
 काकरोच 122 14  
**काकल**  
 काकल 145 10 ⇨  
**काकली**  
 कुडुक 298 11  
**काका**  
 घाघा 722 22  
 बालक 230 23

**काकारि**  
 उल्लू 126 14  
**काकिणी**  
 कौडी 124 15  
 कौडी 629 10  
**काकी**  
 घाघी 722 23  
**काकु**  
 काकु 465 14 ⇨  
**काकुद**  
 तालु 143 10  
**काकुल**  
 घुंघराले केश 137 13  
 लट 223 15  
**काकृति**  
 काकृति 434 8 ⇨  
**काकेरास वंशी**  
 आर्य जातीय 732 14  
**काकेशियाई**  
 आर्य जातीय 732 14  
**काकेशियाई जातियाँ**  
 श्वेत जाति 730 7  
**काकोदर**  
 सारप 123 10  
**काकोदुंबरिका**  
 अजीर 190 4  
**काग**  
 अपिधानित 675 19  
 काकल 145 10  
 कौआ 126 22  
 खुखड़ी 675 13  
 प्रांतब सूची 1024 4  
**कागज़**  
 कागज़ 415 9 ⇨  
 कागज़ शीट 415 10  
 दस्तावेज़ 412 19  
 पत्र 444 1  
 समाचार पत्र 445 1  
**कागज़ की नाव**  
 अत्य कालीनता उक्ति सूची 38 9  
**कागज़ कौन**  
 कोणाकार पुड़िया 674 7  
**कागज़: धिप्पी**  
 धिप्पी 938 15  
**कागज़: टुकड़ा**  
 परया 938 28  
**कागज़: तारतरी**  
 पेपर प्लेट 685 5  
**कागज़ पटल**  
 कागज़ पटल 990 5 ⇨  
**कागज़ पत्तर**  
 पुलिदा 674 8  
**कागज़ पत्तर: अटैची**  
 ग्रीफकेस 673 8  
**कागज़ पत्तर: थैला**  
 बस्ता 673 11  
**कागज़ पत्र**  
 दस्तावेज़ 412 19

**कागज़ बंडल**  
 पुलिदा 674 8  
**कागज़ रीम**  
 चार सी अस्सी कागज़ समुच्चय 687 22  
**कागज़ लिखना**  
 दस्तावेज़ लिखना 412.41  
**कागज़: शीट**  
 कागज़: शीट 415.10 ⇨  
**कागज़ी काररवाई**  
 दस्तावेज़ लेखन 412.23  
 पत्र व्यवहार 444 5  
**कागज़ी सिक्का**  
 कागज़ी सिक्का 629 2 ⇨  
**कागद**  
 कागज़ 415 9  
**काग भुशुडि**  
 काक भुशुडि 770 20  
**कागा**  
 कौआ 126 22  
**कागा भुजंग**  
 गहरा काला 289 38  
**कागारोल**  
 काँव काँव 298 9  
**काघ**  
 काँच 283 14  
 काछ 148 10  
 काला नमक 279 6  
 तराजू पलड़ा डोरी 962 24  
 मोतिया बिंद 164 4  
**काचक**  
 काँच 283.14  
 शार 87 10  
**काचक (प्र)**  
 नेत्र लैस 141 10  
 लैस 283 4  
**काच कूपी**  
 काँच बोटल 678 4  
**काधन**  
 ग्लेज़िंग 218 11  
**काध पात्री**  
 काँच बोटल 678.4  
**काच मणि**  
 स्फटिक 283.20  
**काच लवण**  
 काला नमक 279 6  
**काधित**  
 लौसी (प्रिट) 405 7  
**काधीकरण**  
 ग्लेज़िंग 218 11  
**काधो**  
 काला नमक 279.6  
**काछ**  
 काछ 148.10 ⇨  
 लॉग 586.31  
**काछना**  
 पहनना 589 22  
**काछनी**  
 घुटन्रा घाघरा 586.10

लॉग 586 31  
**काज**  
 काज 571.14 ⇨  
 कार्य 506 1  
 मंगलोत्सव 796 1  
 संस्कार 798 1  
**काज करना**  
 संस्कार करना 798 34  
**काज कर्ता**  
 संस्कार कर्ता 798 40  
**काजल**  
 नेत्रांजन 225 22  
**काजल: टीका**  
 नजर टीका 710 11  
**काज़ी**  
 काज़ी 874 19 ⇨  
**काज़ी उल् कुज़्जात**  
 प्रधान काज़ी 874 20  
**काजू**  
 काजू 191 4 ⇨  
 मेया सूची 191 2  
**काट**  
 कतरन 938 4  
 कर्तन 543 1  
 काट 543 2 ⇨  
 कुट युक्ति 819 8  
 खडन 326 3  
 खॉंचा 970 10  
 चीरा 174 4  
 तलछट 526 7  
 तीक्ष्णता 270.6  
 त्वघा मल 215.5  
 धातुघ्नन 565 3  
 धातु मल 214 5  
 धार 270 7  
 निरसन 338 9  
 निवारण 920 4  
 परिधान काट 577 4  
 पैतरा तोड़ 486.21  
 पतिरक्षा 908 2  
 प्रभाव मदन 511 5  
 मत्र नाशन 758 8  
 मास खड 206 25  
 विदर 544 4  
 सकट मोचक युक्ति 910 2  
**काटकपट**  
 दौंचपेच 819.11  
**काटकी (बंदर भालू)**  
 डंडी 923 7  
**काट खाना**  
 दंत प्रहार करना 918.2'  
**काट गिराना**  
 मारना 251 18  
**काटछोट**  
 कटाई छँटाई 543 7  
 संपादन 445.11  
**काटता [काटती]**  
 आका तिरछ [आकी तिरछी] 1026.11



युभनशील 270 18  
 तीक्ष्ण 270 19  
 पीड़ाप्रद 392 26  
 हृदय भजक 391 34  
**काटती बात**  
 कटाक्ष 844 3  
**काटते**  
 आड़े तिरछे 1026 12  
**काटदार**  
 तीक्ष्ण 270 19  
**काटन**  
 कतरन 938 4  
**काट न करना**  
 निवारण न करना 919 7  
**काटना**  
 अपलाप करना 435 22  
 आपरेशन करना 174 21  
 आरा चलाना 564 9  
 कटौती करना 664 27  
**काटना 543 13** ⇨  
 खडन करना 326 9  
 ग्रसना 181 37  
 घटान करना 954 12  
 चुभना 270 11  
 डंक मारना 918 25  
 दत प्रहार करना 918 24  
 निरस्त करना 338 24  
 फसल काटना 548 39  
 मत्र काटना 758 34  
 रिआयत देना 664 26  
 विलग करना 1011 4  
 सक्षिप्त करना 980 14  
**काटने दीड़ना**  
 अति क्रुद्ध होना 373 16  
**काटने वाला**  
 कर्तक 543 16  
 खडन कर्ता 326 18  
 दत प्रहार कर्ता 918 36  
 निवारक 920 18  
 प्रभाव मदक 511 21  
**काटफाँट**  
 कटाई फटाई 543 8  
 कुलेख उपमान सूची 412 13  
**काटफाँस**  
 दाँवपेच 819 11  
**काट लगाना**  
 स्रवित करना 83 12  
**काटा**  
 अस्वीकृति चिह्न 407 5  
 डंक दश 918 13  
**काटा [काटी]**  
 कर्तित 543 14  
 मुकरा [मुकरी] 338.40  
**काटू**  
 कर्तक 543.18  
 दत प्रहार कर्ता 918.36  
 प्रभाव मदक 511 21

**काटो तो खून न होना**  
 आतंकित होना 395 16  
**काटचत्ता**  
 तीक्ष्णता 270 f  
**काठ**  
 काष्ठ 597 1  
 काष्ठ बेड़ी 868 26  
 जलावन 110 4  
 जलावन लकड़ी 110 5  
**काठ कबाड़**  
 रद्दी 526 13  
**काठ कबाड़ा**  
 रद्दी 526 13  
**काठ कलछी**  
 काठ कलछी 681 6 ⇨  
**काठ का घोड़ा**  
 बैसाखी 596 14  
**काठ की गुड़िया**  
 कठपुतली 473 5  
**काठ की हौड़ी**  
 अल्प कालीनता उक्ति सूची 389  
**काठः जीन**  
 काठी 595 50  
**काठवा**  
 कठौती 679 43  
**काठवी**  
 कठौती 679 44  
**काठ बरतन**  
 काठ बरतन 680 3 ⇨  
**काठ बरतन सूची**  
 काठ बरतन सूची 680 4 ⇨  
**काठ बेड़ी**  
 काष्ठ बेड़ी 868 26  
**काठमांडू**  
 नेपाल राजधानी 27 10  
**काठी**  
 क्रुद कामत 154 1  
**काठी 595 50** ⇨  
 जल विभाजक 16 7  
 जीन 595 47  
 जीन सूची 595 48  
 पर्वत पृष्ठ 16 10  
 महमिल 595 52  
**काफी**  
 माधिस 107 7  
**काड़ना**  
 उत्कीर्ण करना 406 36  
 कड़ाही में तलना 195 53  
 कड़ाई करना 577 27  
 निष्कर्षित करना 83 11  
 बाहर करना 999 10  
 मद्य आसवन करना 82 6  
**काड़ा**  
 काड़ा 208 19 ⇨  
**काड़ा बनाना**  
 उद्व्याधित करना 195 56  
**काणा [काणी]**  
 काणा [काणी] 164 9 ⇨

**कात**  
 खड़ा 924 2  
**कातना**  
 कातना 567 14 ⇨  
**कातर**  
 अभ्रुपूर्ण 387 7  
 उद्दिग्ध 377 13  
 कष्टग्रस्त 392 21  
**कातर 380 11** ⇨  
 कातल 125 3  
 कापुरुष 395 29  
 खड़ा 924 2  
 चिताग्रस्त 377 10  
 भयभीत 395 19  
 विवश 901 11  
**कातरता**  
 कातरता 380 3 ⇨  
 दुःखग्रस्तता 391 2  
**कातय**  
 कातरता 380 3  
**कातल**  
 कातल 125 3 ⇨  
**काता**  
 बॉक 924 15  
 सूती धागा 569 22  
**कातिक**  
 कार्तिक 43 14  
**कातिब**  
 कातिब 413 8 ⇨  
 प्रतिनिपिक 414 2  
 लिपिक 412 4  
 सुलेखक 412 47  
**क्रांतिल**  
 मारक 251 24  
 मारने वाला 251 26  
 हत्या कर्ता 251 29  
**क्रातिलाना**  
 मारक 251 24  
 हिसापूर्ण 251 30  
**कात्यायन**  
 ऋषि मुनि सूची 789 17  
**कात्यायनी**  
 अघेड़ विधवा 804 16  
 दुर्गा 776 7  
**कात्यायनी सुत**  
 स्कद 773 50  
**काथलिक**  
 कैथलिक मतावलंबी 736 21  
**काथलिक बिशपः सहायक**  
 विकार 744 36  
**काथलिक महागुरु**  
 पोप 744 33  
**काथिक**  
 कथा वाचक 749 19  
**कादंब**  
 कदंब 13 6  
 कदंब पुष्प मद्य 209 5  
 बाण 926 16

राजहस 126 78  
**कादंबक**  
 बाण 926 16  
**कादंबर**  
 गुड़ 280 14  
**कादंबरी**  
 कदंब पुष्प मद्य 209 5  
 कोयल 126 21  
 मद्य 209 1  
 मैना 126 67  
 सरस्यती 775 8  
**कादंबिनी**  
 मेघ समूह 55 2  
**काद्रवेय**  
 नाग 778 12  
 सर्प सूची 123 16  
**काद्रवेयः माता**  
 कद्रु 787 11  
**काद्रवेयी**  
 नाग स्त्री 778 13  
**कान**  
 इन्द्रिय सूची 268 2  
 कर्ण 1073 2  
**कान 142 1** ⇨  
 तराजू पासग 962 25  
 दीवार खूँटी 1016 17  
 दो उपमान सूची 948 20  
 बरतन हत्था 680 29  
 वाद्य खूँटी 461 95  
 विकर्णता 1026 5  
**कान (दे.)**  
 श्रवण अनुभूति 293 1  
**कानः 2**  
 शरीर नौ रज्ज सूची 138 3  
**कान उठाना (पशु)**  
 सावधान होना 497 3  
**कान उभेटी**  
 कान उभेटी 870 5 ⇨  
**कान ऐठना**  
 अनुशासित करना 893 9  
**कानखजूरा**  
 कनखजूरा 122 13  
**कान छिदना**  
 कनछेदन होना 798 35  
**कान छिदाई**  
 कनछेदन सस्कार 798 16  
**कानः छिद्र**  
 कान. छिद्र 142 2 ⇨  
**कानदार**  
 विकर्णयुक्त 1026.11  
**कान देना**  
 अभिमुख होना 1023 5  
 ध्यानपूर्वक सुनना 293.9  
 सुनना 293 7  
**कानन**  
 उपयन 12 11  
 यन 12.1

## कान न देना

### कान न देना

- अयज्ञा करना 348 4  
न सुनना 293 8
- कानफ़रेस (अँ)**  
समाचार सम्मेलन 445 19
- कानफ़रेस (अँ)**  
सभा 694 1
- कान फूकना**  
चुगली करना 843 19  
धर्म दीक्षा देना 742 19
- कान फोडना**  
कोलाहल करना 294 18
- कान बिंधना**  
कनछेदन होना 798 35
- कान बिंधाई**  
कनछेदन सरकार 798 16
- कान भरना**  
चुगली करना 843 19
- कान में कहना**  
कानाफ़ूसी करना 435 19
- कान में कौड़ी डालना**  
दास बनाना 651 24
- कान में सुनाया मंत्र**  
गुरुमंत्र 742 10
- कान लगाना**  
आहट लेना 297 42  
ध्यानपूर्वक सुनना 293 9
- कान: ललरी**  
कान ललरी 134 13 ⇨
- कान: लोलकी**  
कान ललरी 134 13
- कान: ली**  
कान ललरी 134 13
- काना**  
पासा बिंदी 479 25
- काना [कानी]**  
काणा [काणी] 164 9  
यिकर्णयुक्त 1026 11
- कानाकानी**  
अपुष्ट समाचार 440 5
- कानागोसी**  
कानाफ़ूसी 435 4
- कानाफ़ूसी**  
कानाफ़ूसी 435 4 ⇨  
गुप्त परामर्श 332 4  
गुप्त वार्तालाप 435 3  
जनातिक वचन 465 3
- कानाफ़ूसी करना**  
कानाफ़ूसी करना 435 19 ⇨
- कानाफ़ूसी कर्ता**  
कानाफ़ूसी कर्ता 435 26 ⇨
- कान्नाबाली**  
कानाबाली 435.5 ⇨
- कानी उँगली**  
कनिष्ठिका 150 19
- कानी चिट्ठी**  
मृत्यु सूचना पत्र 253 20

### कानीन

- कर्ण 771 47  
वेद व्यास 789 21
- क्रानून**  
लोक व्यवहार नियम 878 2  
विधि (कानून) 878 1
- क्रानून क्रायदा**  
संविधान 878 16
- क्रानून का राज्य होना**  
सनियम शासन होना 893 10
- क्रानूनदाँ**  
विधिज्ञ 878 13
- क्रानूनदानी**  
विधि ज्ञान 878 12
- क्रानूनन**  
विधित 878 32
- क्रानून बनाना**  
विधायन करना 878 24
- क्रानून व्यवस्था**  
सुशासितता 893 3
- क्रानून व्यवस्थाहीन**  
शासनहीन 894 7
- क्रानून संगत**  
वैध 878 26
- क्रानूनिया**  
वित्तडावादी 324 27  
विधिज्ञ 878 13
- क्रानूनी**  
अधिकार विषयक 897 13  
विधीय 878 25  
वैध 878 26  
वैध 716 19
- क्रानूनी कागज़**  
दस्तावेज़ी कागज़ 412 22
- क्रानूनी चिकित्सा**  
विधिक चिकित्सा 173 4
- क्रानूनी तौर पर**  
विधित 878 32
- क्रानूनी राज्य**  
सनियम शासन 893 2
- क्रानूनी राज्य अभाव**  
अनियम शासन 894 2
- क्रानूनी राज्य होना**  
सनियम शासन होना 893 10
- क्रानूनी रिश्ता**  
विवाह संबध 724 1
- क्रानूनी शादी**  
सिविल मैरिज 799 15
- कानों चुना**  
स्वत भ्रत 293 15
- कानों चुनी बात**  
अपुष्ट समाचार 440 5
- कानोकान खबर न होने देना**  
गुप्तत करना 824 15
- कान्ह**  
कृष्ण 771 1
- कान्हका**  
राग रागिनी सूची 457 24

### कान्हा

- कृष्ण 771 1
- कापालिक**  
कपालधारी सन्यासी 790 13  
तत्र साधक 758 4
- कापालिकी**  
नवकन्या सूची 774 20
- कापालिनी**  
चामुडा 776 5
- कापाली**  
शिव 767 1
- कापिशोय**  
पिशाच 786 8
- कापी**  
कापी बुक 415 15  
फोटो प्रिंट 405 6  
मुद्रण पाडुलिपि 412 30
- कापी (अँ)**  
अनुकृति 397 27  
पुरस्क प्रति 446 8  
प्रतिरूप 967 9  
प्रतिलिपि 414.1  
मुद्रित प्रति 419 8
- कापीइंग (अँ)**  
अनुकरण 505 8
- कापी बुक**  
कापी बुक #15 15 ⇨
- कापी बुक (अँ)**  
कापी बुक 415 15
- काफ़े मीटर (अँ)**  
मुद्रण पाडुलिपि 412 30
- कापीराइट**  
कापीराइट 621 11 ⇨
- कापीराइट (अँ)**  
कापीराइट 621 11
- कापीराइट होल्डर (अँ)**  
कृति स्वामी 621 12
- कापीहोल्डर**  
कापीहोल्डर 413.25 ⇨
- कापीहोल्डर (अँ)**  
कापीहोल्डर 413.25
- कापुरुष**  
कापुरुष 395 29 ⇨
- कापुरुषता**  
कापुरुषता 395 12 ⇨
- कापुरुषतापूर्ण**  
कापुरुषतापूर्ण 395 28 ⇨
- कापोत**  
सीसा 94 14
- कापोतक**  
फ़्राख़ता 126 52
- क्राक्रिया**  
तुक 452 49
- क्राक्रियाबंध**  
छंदबद्ध 452 53
- क्राक्रियाबाज़ी**  
अताक्षरी 694.11

### काफ़िर

- गैरमुसलिम 736 3  
प्रेमपात्र 369 4
- काफ़िर (इस्लाम)**  
मूर्ति पूजक 751 8
- काफ़िरला**  
यात्री दल 1088 5  
सार्थ 657 13
- काफ़िरला सालार**  
साधंपति 657 14
- काफ़िले वाला**  
साधंपति 657.14
- काफ़ी**  
अल 941 10  
काफ़ी 208 20 ⇨  
पर्याप्त 941 6  
राग रागिनी सूची 457 24  
सुलभ 943 10
- काफ़ी पर्कॉलेटर**  
काफ़ी पर्कॉलेटर 682 21 ⇨
- काफ़ी पर्कॉलेटर (अँ)**  
काफ़ी पर्कॉलेटर 682 21  
चाय काफ़ी बरतन सूची 680.20
- काफ़ी पीट (अँ)**  
चाय काफ़ी बरतन सूची 680 20
- काफ़ी वाष्पित्र**  
ऐस्प्रेसो मशीन 682 23
- काफ़ी सैट (अँ)**  
चाय काफ़ी बरतन सूची 680 20  
बरतन सैट सूची 680 19
- काफ़ी हाउस**  
काफ़ी हाउस 194.3 ⇨
- काफ़ी हाउस (अँ)**  
काफ़ी हाउस 194 3
- काफ़ूर**  
कपूर 274 14
- काफ़े (फ़ाँ)**  
काफ़ी हाउस 194.3
- काबला**  
काबला 1016.24 ⇨
- काबला डरकी**  
नट बोल्ड 1016 23
- काबला नट**  
नट बोल्ड 1016 23
- क्राबा**  
घोकोर भवन 602 8
- क्राबा: कूप**  
काबा कूप 19.6 ⇨
- काबा दिशा दर्शी यंत्र**  
क्रिबलानुमा 29 19
- क्राबिज़**  
आधिपत्यधारी 899 9  
आवास आधिपत्यधारी 622.9
- क्राबिल**  
प्रवीण 303.22  
योग्य 303.14  
विद्वान 319.8  
सुपात्र 303.15

<b>क्राविलीयत</b>	सलमा सितारा काम 577.18	<b>काम धलाऊ</b> 941 7 ⇨	<b>कामबुध</b>
प्रयीणता 303.8	<b>काम आना</b>	तदर्थं नियुक्त 653 39	वरदाता 714.9
योग्यता 303 1	उपभुक्त होना 524 9	मध्यम स्तरीय 313 18	<b>काम दूती</b>
<b>क्राविले गौर</b>	खपना 644 16	<b>काम धलाऊपन</b>	कोयल 126 21
विचारणीय 330.20	युद्ध में मरना 249.20	मध्यम स्तरीयता 313 9	<b>काम देना</b>
<b>क्राविले तारीक़</b>	सहायता करना 700 17	<b>काम धलाना</b>	नियुक्त करना 653 24
प्रशसनीय 841 30	<b>काम करना</b>	कार्यकारी होना 653 29	<b>कामदेव</b>
<b>क्राविले दीद</b>	कर्म करना 504 14	<b>कामघारी</b>	कामदेव 773 12 ⇨
दर्शनीय 400 13	कार्यान्ययन करना 505 12	कामुक 237 14	<b>कामदेव (अवतार) (विष्णु पुराण)</b>
<b>काबीना</b>	गढ़ना 545 22	गरुड़ 777 15	प्रद्युम्न 771 73
अलमारी 671 1	<b>काम कला</b>	हेकड़ीबाज़ 734 23	<b>काम देवता</b>
कमरा 614 1	रति 774 78	<b>कामघोर</b>	कामदेव 773 12
खानो वाली अलमारी 671 4	<b>काम कला कोविदा</b>	कामघोर 490 10 ⇨	<b>कामदेवः धनुष</b>
मन्त्री मडल 889.16	प्रगल्भा नायिका 456 10	<b>कामघोर बैल</b>	कामदेवः धनुष 773.15 ⇨
<b>काबुक</b>	<b>काम का</b>	कामघोर बैल 127 14 ⇨	<b>कामदेवः पत्नी</b>
कथुतरखाना 603 15	उपयोगी 524 18	<b>कामचोरी</b>	प्रीति 774 54
तदूर गद्दी 109 8	कार्यक्षम 487 27	कामचोरी 490 2 ⇨	रति 774 78
<b>काबुकी</b>	<b>कामकाज</b>	<b>कामचोरी करना</b>	<b>कामदेवः पत्नी सूची</b>
काबुकी 463 12 ⇨	व्यवसाय 650 9	कामचोरी करना 490 7 ⇨	कामदेव पत्नी सूची 773 14 ⇨
<b>काबुली</b>	<b>कामकाजी</b>	<b>कामज मनोविकार</b>	<b>कामदेवः पुष्प बाण</b>
मटर 189 31	बेपरदा 590 19	यौन मनोविकार 353 14	कामदेव पुष्प बाण 773 18 ⇨
<b>क्राबू</b>	व्यवसायी 650 24	<b>कामजित</b>	<b>कामदेवः पुष्प बाण सूची</b>
अधिग्रहण 635 1	<b>काम का न रहना</b>	गीतग बुद्ध 793 1	कामदेवः पुष्प बाण सूची 773 19 ⇨
आधिपत्य 899 8	कार्य क्षमता खोना 488.8	जितेन्द्रिय 364 14	<b>कामदेवी</b>
नियंत्रण 899 10	<b>काम का होना</b>	तीर्थकर 792 1	प्रीति 774 54
वश 899 13	उपयोगी होना 524 12	शिव 767 1	रति 774 78
<b>क्राबू में न रहना</b>	कार्यक्षम होना 487 15	रकट 773 50	<b>कामदेवी सूची</b>
मदोन्मत्त होना 211 10	<b>काम की बात</b>	<b>कामजितता</b>	कामदेवी सूची 77. 22 ⇨
<b>क्राबू रखना</b>	बहुमूल्य गुर 517 5	जितेन्द्रियता 364 5	<b>कामधंधा</b>
सयम पालना 808 11	<b>काम कुसुम</b>	<b>क्रामत</b>	व्यवसाय 650 9
<b>क्राबू से बाहर</b>	कामदेव पुष्प बाण 773 18	रुद कामत 154 1	<b>कामधाम</b>
नियंत्रणहीन 900 8	<b>कामकूट</b>	<b>काम तमाम करना</b>	व्यवसाय 650 9
<b>क्राबू से बाहर होना</b>	वेश्यागामी 807 16	भरना 251 18	<b>कामधेनु</b>
नियंत्रण न होना 900 4	<b>काम के बदले काम</b>	<b>काःतरु</b>	पौराणिक गाय सूची 127 11
<b>काम</b>	रमैती 643 14	कल्पवृक्ष 13 29	सुरभि 787 27
इच्छा 359 1	<b>काम केलि</b>	<b>कामथ</b>	<b>कामधेनु हर्ता</b>
<b>काम</b>	रति सयोग 237 10	खेत भवन 602 15	कार्तवीर्य 769 31
इच्छुक 359 21	<b>काम क्रीडा</b>	<b>कामद</b>	<b>कामध्यज</b>
<b>काम</b>	रति सयोग 237.10	वरदाता 714 9	मछली 125 1
कड़ाई काम 577 14	<b>कामग</b>	<b>कामद [कामदा]</b>	<b>काम न करना</b>
कर्म 504 1	इच्छागामी 1091 11	इच्छा पूरक 361 14	कामचोरी करना 490 7
कलाकृति 397.20	<b>कामगति</b>	<b>कामद मणि</b>	यत्र विकृत होना 536 5
कामदेव 773 12	इच्छागामी 1091 11	घितामणि 96 18	<b>कामना</b>
काम वासना 237 5	<b>कामगर</b>	<b>कामदा</b>	इच्छा 359 1
कार्य 506 1	सौभाग्यशाली 260 33	कामदा 774 21 ⇨	प्रेम 368 1
घटना 75 1	<b>कामगार</b>	<b>कामदाता</b>	मनासिजा 352 5
घतुर्वर्ग सूची 761.23	श्रमिक 651 19	इच्छा पूरक 361 14	मनोयाछा 359 4
चित्रकला 404 23	सफल 512 6	<b>कामदानी</b>	मन्नत 361 3
त्रिवर्ग सूची 761.21	<b>कामगारी</b>	सलमा सितारा काम 577 18	लालसा 359 5
पंच कामदेव सूची 773 13	श्रमिकता 651 18	<b>कामदार</b>	<b>कामना कर्ता</b>
प्रयोजन 508.1	<b>कामघर</b>	कड़ाईदार 577.31	इच्छुक 359 21
प्रेम 388.1	इच्छागामी 1091 11	विजयित 1016 42	<b>कामनापूर्ण</b>
रचना विन्यास 527.8	हेकड़ीबाज़ 734 23	<b>काम विलाक एजेंसी</b>	इच्छापूर्ण 359.18
लीला 506 8	<b>काम चलना</b>	रोज़गार एजेंसी 650 3	<b>कामनाहीन</b>
विश्वेदेव सूची 777 10	जीवन निर्वाह होना 825 6	<b>काम विलाक कार्यालय</b>	इच्छाहीन 360.9
व्यवसाय 650.9	पर्याप्त होना 941 5	रोज़गार कार्यालय 650 2	<b>कामनाहीनतः</b>
शुक्राचार्य 789.23	<b>काम धलाऊ</b>	<b>कामबुध</b>	इच्छाहीनतः 360 21
बन्धिविकार सूची 812.5	अंतरिम कालीन 60 12	इच्छा पूरक 361 14	

## कामनाहीनता

कामनाहीनता  
इच्छाहीनता 360 1  
काम निकलना  
सफल होना 512 3  
काम पड़ना  
साबका पड़ना 703 9  
काम पर लगाना  
नियुक्त करना 653 24  
कामपाल  
बलराम 771 74  
विष्णु 768 1  
कामप्रद  
इच्छा पूरक 361 14  
विष्णु 768 1  
काम बंद  
कार्य दिवसात 494 3  
काम बंद करना  
हड़ताल करना 902 23  
काम बंदी  
कार्य दिवसात 494 3  
कामबंदी  
खानाबंदी 902 17  
हड़ताल 902 11  
काम बनना  
युक्ति लगना 517 8  
सफल होना 512 3  
कामबाण  
कामबाण 773 16 ⇨  
काम बाण सूची  
काम बाण सूची 773 17 ⇨  
काम बिगाड़ना  
भोजी मारना 844 9  
काम बिगाड़ने वाली उक्ति  
भोजी 844 4  
काम बीघ में छोड़ना  
धैर्य धारना 394 11  
काममह  
कामोत्सव 773 20  
काम में आना  
खपना 644 16  
काम में न आना  
उपभुक्त न होना 525 4  
काम में न लाना  
उपभोग न करना 525 5  
काम में लाना  
उपभोग करना 524 10  
कामयाब  
उत्तीर्ण 322 39  
जयी 912 15  
सफल 512 6  
कामयाबी  
सफलता 512 1  
काम यौवनपूर्ण नायिका  
मध्या नायिका 456 9  
काम राक्षस  
काम राक्षस 785 6 ⇨  
काम राक्षसी  
काम राक्षसी 785 7 ⇨

कामरान  
सफल 512 6  
सौभाग्यशाली 260 33  
कामरानी  
सफलता 512 1  
सौभाग्य 260 17  
कामरिपु  
शिव 767 1  
कामरूप  
कामरूपी 532 21  
कामरूप का जादू  
पूर्व का जादू 474 5  
कामरूपता  
कामरूपता 532 10 ⇨  
कामरुपा  
शूर्पणखा 784 27  
कामरूपाणु (प्र)  
अमीबाणु 122 3  
कामरूपिणी  
विद्याधर स्त्री 719 16  
कामरूपी  
कामरूपी 532 21 ⇨  
विद्याधर 779 15  
कामरेड  
पार्श्वघर 696 18  
कामल  
पीलिया 163 37  
कामली  
कबल 593 6  
पीलिया 163 37  
कामलेखा  
वेश्या 807 5  
काम वल्लभ  
आम वृक्ष 13 5  
काम वासना  
काम वासना 237 5 ⇨  
मनसिजा 352 5  
काम वासना: स्पष्ट प्रकटीकरणतः  
अवर्णनीयता 449 2  
काम विजय  
काम विजय 237 7 ⇨  
काम विजेता  
काम विजेता 237.16 ⇨  
कामवृत्त  
आसक्त 365 5  
कामशक्तिहीन  
नपुंसक 238 18  
कामशर  
आम वृक्ष 13 5  
कामबाण 773 16  
कामशास्त्र निपुण पात्र  
विट 467 18  
काम सँभालना  
कार्य ग्रहण करना 653 25  
कामचुत  
अनिरुद्ध 771 34  
काम से  
प्रयोजनत 508 11

काम से छुट्टी  
विश्राम काल 494 2  
कामहा  
विष्णु 768 1  
कामहीन  
इच्छाहीन 360 9  
कामहीन 237.17 ⇨  
कामहीनतः  
इच्छाहीनतः 360 21  
कामहीनता  
इच्छाहीनता 360 1  
काम होना  
आवश्यक होना 524 13  
प्रयोजन होना 508 5  
व्यवहार होना 703 7  
व्यस्त होना 502 8  
सफल होना 512 3  
कामाङ्कुरण  
शृंगार रस 455 20  
कामांग  
आम वृक्ष 13 5  
कामाकांक्षा  
काम वासना 237 5  
कामाक्षी  
कामदेवी सूची 774 22  
कामाक्षी 774.23 ⇨  
दुर्गा 776 7  
ललिता देवी 774.80  
कामाख्या  
कामाक्षी 774 23  
दुर्गा 776 7  
भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1  
कामाग्नि  
प्रेमासक्ति 368 8  
कामाचारी [कामाचारिणी]  
स्वैच्छाचारी 809 7  
कामायुध  
कामबाण 773 16  
पुरुष जननेद्रिय 152.10  
कामारि  
शिव 767 1  
कामायशायिता  
सत्य निष्ठा 820 9  
कामासक्त  
कामुक 237 14  
कामासक्ता  
कामुकी 237 15  
कामिका  
मनसिजा 352 5  
कामित  
इच्छित 359.19  
कामिनी  
कामुकी 237.15  
प्रेमपात्रा 369 5  
सुंदर स्त्री 157 2  
कामिल  
जादूगर 474 11  
पूर्णविद्य 318 5

प्रवीण 303 22  
सिद्ध साधु 790 30  
कामी  
कबूतर 126 16  
कामुक 237.14  
चकया 126.31  
पापी 812 12  
प्रेमी 368 2  
विष्णु 768 1  
व्यभिचारी 806.10  
शिव 767.1  
कामी [कामिनी]  
इच्छुक 359 21  
लालसी 359 29  
कामुक  
अतिशय विलासी 363 21  
कामुक 237 14 ⇨  
व्यभिचारी 806 10  
कामुकता  
अतिशय विलास 363 8  
अरलीलता 734 7  
कामुकता 237 6 ⇨  
विवाह अनिष्ठा 806 1  
कामुकतापूर्ण  
अरलील 734 19  
कामुकी  
कामुकी 237 15 ⇨  
व्यभिचारिणी 806 11  
कामेच्छा  
काम वासना 237 5  
कामेच्छाहीन  
नपुंसक 238 18  
कामेडी  
कोमेडी 463 4  
कामेशरी  
ललिता देवी 774 80  
कामेश्वर  
शिव 767 1  
कामेश्वरी  
कामाक्षी 774 23  
भैरवी सूची 776.14  
ललिता देवी 774 80  
कामोत्सव  
कामोत्सव 773.20 ⇨  
कामोद  
राग रागिनी सूची 457 24  
कामोद्रेक प्राप्ति  
शृंगार रस 455 20  
कामोन्माद  
कामोन्माद 353.15 ⇨  
काम्य [काम्या]  
इच्छनीय 359 20  
सुंदर 157 7  
काम्यता  
सुंदरता 157 1  
काम्या  
इच्छा 359.1  
प्रेमपात्रा 369 5

**काम्योष्टि**

इच्छा पूर्ति यज्ञ 361 2

**काम्योष्टि यज्ञ**

इच्छा पूर्ति यज्ञ 361 2

**काय**

जनता 883 5

निधि 628 5

मूलधन 633 9

शरीर 139 1

सघ 692 13

संस्था 692 1

समूह 690 1

**काय अनुपात**

भग अनुपात 155 1

**काय कोशिका**

अजनन कोशिका 130 6

**काय चिकित्सा**

काय चिकित्सा 173 3 ⇨

**काय चिकित्सा तंत्र**

आयुर्वेद आठ अंग सूची 172 7

**क्रायदगी**

नियमानुकूलता 879 9

व्यवस्था 893 5

**क्रायदा**

कार्य विधि 514 1

क्रम 991 1

नियम 879 1

वर्णमाला पुस्तक 322 3

विधि (कानून) 878 1

व्याकरण 425 1

सम्प्रीकरण 733 1

सूत्र वाक्य 424 18

**क्रायदा क्रानून**

सविधान 878 16

**क्रायदा क्रानून तोड़ना**

नियम भंग करना 879 16

विधि पालन न करना 515 5

**क्रायदे से**

विधिपूर्वक 514 19

**क्रायदे से चलना**

कार्यविधि पालन करना 514 10

**कायनात**

ब्रह्मांड 1 1

**क्रायम**

दीर्घ कालीन 37 10

निरधल 1038 8

स्थित 1020 8

**क्रायममिज़ाजी**

निरुद्धिगता 378 3

**कायर**

कापुरुष 395 29

**कायरता**

कापुरुषता 395 12

**कायरतापूर्ण**

कापुरुषतापूर्ण 395 28

**क्रायल**

सहमत 337 19

**क्रायल करना**

आपत्ति निवारण करना 326 13

**क्रायल होना**

गानना 849 14

सहमत होना 337 11

**काय विवाह**

प्राजापत्य विवाह 799 26

**कायस्थ**

निर्गुण ब्रह्म 764 28

लेखापाल 632 32

**कायस्था**

तुलसी 13 9

हड़ 281 37

**कायांतर**

पूर्ण परिवर्तन 532 8

**कायांतरित**

पूर्ण परिवर्तित 532 19

**काया**

आकार रूप 967 5

ऋद क्रामत 154 1

शरीर 133 1

**कायाकल्प**

कायाकल्प 172 16 ⇨

नवीकरण 64 6

पूर्ण परिवर्तन 532 8

**काया क्षय**

कुपोषण 179 4

**काया दृढ़ होना**

काया दृढ़ होना 160 8

**काया दृढ होना**

काया दृढ होना 160 8 ⇨

**काया पलट**

पूर्ण परिवर्तन 532 8

**काया शिथिल होना**

काया शिथिल होना 159 8 ⇨

**काया शोष**

कुपोषण 179 4

**काया सौष्ठव**

सुडौलता 155 2

**कायिक**

शारीरिक 139 11

साकार 967 12

**कायिक मृत्यु**

कायिक मृत्यु 249 2 ⇨

**कायिका (प्र)**

अजनन कोशिका 130 6

**कायी**

साकार 967 12

**कारंज**

नुसिह नौ रूप सूची 769 21

**कारंडव**

कारडव 126 19 ⇨

जलपक्षी सूची 126 7

हलका नीला 289 51

**कारंधमी**

कास्थकार 680 31

कीमियागर 87 7

**कार**

कार 1071 55 ⇨

कार्य 506 1

**कार (अँ)**

कार 1071 55

**कारक**

कारक 425 20 ⇨

**कारक धिह्न**

कारक विभक्ति 425 29

**कारकयुक्त शब्द**

रूपांतरित शब्द 423 10

**कारक विभक्ति**

कारक विभक्ति 425 29 ⇨

**कारकहीन शब्द**

अरूपांतरित शब्द 423 11

**कारकुन**

कर्मचारी 652 27

कार्यकर्ता 506 9

**कारकुनी**

कर्मचारिता 652 26

**कारखाना**

कार्यशाला 654 2

मरम्मत घर 536 3

यंत्रालय 558 12

**कारखाना खड़ा करना**

उद्योग लगाना 57 12

**कारखाना लगाना**

उद्योग लगाना 557 12

**कारखानेदार**

उद्योगपति 557 5

**कारगर**

प्रभाशाली 511 17

सफलताप्रद 512 5

**कारगाह**

इहलोक 258 11

कार्य स्थान 654 1

**कारगुज़ार**

कार्यक्षम 487 27

प्रवीण 303 22

**कारगुज़ारी**

करतब 506 7

विलक्षण वस्तु 312 6

**कारघर**

गराज 1069 28

**कारघोब**

कढ़ाई फ्रेम 562 21

**कारघोबी**

कढ़ाई कर्म 577 12

कढ़ाई काम 577 14

कढ़ाईदार 577 31

गुलकारी 577 15

**कारज**

कार्य 506 1

धर्म कर्म 747 1

मंगलोत्सव 796 1

विवाह उत्सव 799 2

**कार झाड़वर**

कार झाड़वर 1079 14 ⇨

**कारण**

कारण 507 3 ⇨

कारणत 507 7

तर्काधार 325 7

परमाणु 78 10

प्रयोजन 508 1

विष्णु 768 1

**कारण कार्य: उक्ति सूची**

कारण कार्य उक्ति सूची 507 20 ⇨

**कारण कार्य भाव**

कारण कार्य भाव 507 1 ⇨

**कारण कार्य संबंध**

कारण कार्य भाव 507 1

**कारणत:**

कारणत 507 7 ⇨

**कारणता**

कारणता 507 2 ⇨

**कारण बनना**

कारणभूत होना 507 4

**कारणभूत**

कारणभूत 507 6 ⇨

**कारणभूतता**

कारणता 507 2

**कारणभूत होना**

कारणभूत होना 507 4 ⇨

**कारणयुक्त**

कारणयुक्त 507 5 ⇨

**कारणयश**

कारणत 507 7

**कारण यादी**

अभियोक्ता 875 5

**कारणयादी**

विवेकवादी 325 25

**कारण: विकार**

परिणाम 510 1

**कारण से**

कारणत 507 7

प्रयोजनत 508 11

कारण से कार्य का निगमन

निगमन 325 13

**कारणहीनत:**

कारणहीनत 507 8 ⇨

**कारणहीनत: (दे.)**

प्रयोजनहीनत 509 5

**कारणहीनता**

प्रयोजनहीनता 509 1

**कारण होना**

कारणभूत होना 507 4

**कारणा**

प्रेरणा 499 1

**कारणिक**

दस्तावेज़ लेखक 412 24

**कारतूस**

बंदूक कारतूस 927 10

**कार दौड़**

कार दौड़ 484.5 ⇨

**कारदौड़**

कार दौड़ 484.5

## कारनामा

### कारनामा

करतब 506 7  
कार्य 506 1  
महान कार्य 506 6  
**कारनिस**  
प्रालबन सूची 1024 5  
**कारपरदाज़**  
कर्ताधर्ता 652 11  
**कारपैटर (अँ)**  
काष्ठ कमी 597 24  
**कारपोरेशन (अँ)**  
लिमिटेड कंपनी 692 5  
**कार पोर्ब**  
कार पोर्ब 1069 27 ⇨  
**कार पोर्ट**  
कार पोर्ब 1069 27  
**कारबंद**  
आज्ञा पालक 347 12  
**कारबन**  
कार्बन 92 6  
**कारबार**  
व्यापार 657 1  
**कारबारी**  
व्यवसायी 650 24  
**कार: बूट**  
डिकी 1076 13  
**काररवाई**  
कार्य विवरण 449 9  
कार्यान्वयन 505 5  
सभा काररवाई 694 21  
**कारय**  
कीआ 126 22  
**कारयान**  
सार्थ 657 13  
**कारयी**  
सोआ 189 3/  
**कारयेल्न**  
करेला 189 12  
**कार शैड**  
कार पोर्ब 1069 27  
**कारसाज़**  
कार्यान्वय कर्ता 505 28  
प्रथीण 303 22  
**कारसाज़ी**  
करतब 506 7  
कुटिलता 818 3  
प्रवीणता 303 8  
**कारा**  
कारागार 868 21  
कारावास दंड 868 13  
**काराकोरम पर्वत माला**  
भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1  
**कारागार**  
कारागार 868 21 ⇨  
दुख धाम 391 3  
**कारागार अध्यक्ष**  
कारागार अध्यक्ष 868.22 ⇨

### कारागार कोठरी

कारागार कोठरी 868 23 ⇨  
**कारागुप्त**  
बंदी 868 18  
**कारापाल**  
कारागार अध्यक्ष 868 22  
**काराबद्ध**  
बंदी 868 18  
बंदीकृत 868 34  
**कारामद**  
उपयोगी 524 18  
**कारावास**  
कारावास दंड 868 13  
बंदीकृतता 868 5  
**कारावास दंड**  
कारावास दंड 868.13 ⇨  
**कारावास मुक्ति**  
रिहाई 869 1  
**कारावासी**  
बंदी 868 18  
**कारिदा**  
अधीनस्थ कर्मचारी 652 33  
कर्मचारी 652 2/  
**कारिका**  
नर्तकी 462 14  
व्याख्या 427 15  
**कारी**  
कार्यान्वय कर्ता 505 28,  
प्रभावशाली 511 17  
श्रमिक 651 19  
**कारीगर**  
कुशल श्रमिक 651 20  
प्रवीण 303 22  
मरम्मत कमी 538 9  
शिल्पकार 557 10  
**कारीगर: मेज़**  
वर्क बैच 595 38  
**कारीगरी**  
प्रवीणता 303 8  
स्थापत्य 599 1  
हस्त शिल्प 557 9  
**कारीगरी शिक्षा**  
प्रशिक्षा 321 19  
**कारुंडी**  
जोक 122 8  
**कारु**  
विश्वकर्मा 773 44  
शिल्पकार 557 10  
**कारुचौर**  
डकैत 864 20  
सेधमार 864 17  
**कार्ल का खजाना**  
विशाल धनकोश 630 2  
**कारुरा**  
बारुद कुप्पी 678 11  
कारुरा मिलना  
घनिष्ठ होना 704 18

### कारोबार

व्यवसाय 650 9  
व्यापार 657 1  
**कार्गो (अँ)**  
प्रेषित सामान 666 4  
सामान 1061 6  
**कार्गो प्लेन (अँ)**  
मालवाहक विमान 1074 14  
**कार्ट (अँ)**  
ट्रेला 1071 6  
**कार्टन (अँ)**  
पेटी 676 20  
**कार्ट वाला**  
ट्रेले वाला 1071 7  
**कार्टिलेज (अँ)**  
उपास्थि 133 2  
**कार्टून**  
कार्टून 404 12 ⇨  
कार्टून 450 24 ⇨  
**कार्टून (अँ)**  
कार्टून 404 12  
**कार्टूनकार**  
कार्टूनरिस्ट 404 27  
**कार्टून फ़िल्म**  
कार्टून फ़िल्म 472 7 ⇨  
**कार्टून फ़िल्म (अँ)**  
कार्टून फ़िल्म 472 7  
**कार्टूनिस्ट**  
कार्टूनिस्ट 404 27 ⇨  
**कार्टूनिस्ट (अँ)**  
कार्टूनिस्ट 404 27  
**कार्टेज (अँ)**  
भार वहन 1061 2  
माल भाड़ा 622 12  
**कार्ड (अँ)**  
आत्मपरिचय पत्र 704 5  
ताश खेल 478 10  
ताश पत्ता 479 15  
परिचय पत्र 704 4  
**कार्डबोर्ड (अँ)**  
गत्ता 415 12  
**कार्डराय**  
कार्डराय 580 6 ⇨  
**कार्डिगन**  
कार्डिगन 585 60 ⇨  
**कार्डिगन (अँ)**  
कार्डिगन 585 60  
**कार्डिनल नंबर (अँ)**  
पूर्ण संख्या 949 11  
**कार्डुराय**  
कार्डुराय 580 6  
**कार्तवीर्य**  
कार्तवीर्य 769.31 ⇨  
**कार्तवीर्य अर्जुन**  
कार्तवीर्य 769 31  
**कार्तवीर्य सहचार्युन**  
कार्तवीर्य 769 31

### कार्तिक

कार्तिक 43 14 ⇨  
भारतीय मास सूची 43 6  
**कार्तिक अमावस्या**  
दीयाली 57 15  
**कार्तिक कृष्ण अष्टमी**  
अहोई पूजा 57 1  
**कार्तिक कृष्ण चतुर्थी**  
करवा चौथ 57 2  
**कार्तिक शुक्ल द्वितीया**  
भाई दूज 57 17  
**कार्तिकेय**  
स्कंद 773 50  
**कार्तिक**  
कार्तिक 43 14  
**कार्तिकेय**  
स्कंद 773 50  
**कार्दम**  
कीचड़दार 214 10  
**कार्नेलियन (अँ)**  
रत्न सूची 96 5  
**कार्पेटिक**  
यात्री दल 1088 5  
**कार्पोरेशन (अँ)**  
कंपनी 692 4  
नगर निगम 892 8  
**कार्बकल (अँ)**  
रत्न सूची 96 5  
**कार्बन**  
कार्बन 92 6 ⇨  
**कार्बन (अँ)**  
कार्बन 92 6  
**कार्बन कापी**  
अनुलिपि प्रकार सूची 414 6  
**कार्बनिक (अँ)**  
चेतन 121 16  
**कार्बनिक पदार्थ**  
चेतन जगत 121 1  
**कार्बनिक रसायन**  
कार्बनिक रसायन 87 3 ⇨  
**कार्बनीकरण**  
अगारण 108 4  
**कार्बनी रसायन**  
कार्बनिक रसायन 87 3  
**कार्बनेटिड वाटर (अँ)**  
ऐरेटिड वाटर 208 8  
**कार्बोहाइड्रेट**  
कार्बोहाइड्रेट 179.9 ⇨  
**कार्बोहाइड्रेट (अँ)**  
कार्बोहाइड्रेट 179.9  
**कार्बिक संघ**  
कर्म संघ 692 16  
**कार्मुक**  
धनुष 926 8  
**कार्य**  
करणीय 505 18  
कर्तव्य 895 4  
कार्य 506.1 ⇨

कार्यान्वयनीय 505.25  
घटना 75 1  
तथ्य 820 14  
धर्म कर्म 747 1  
प्रयोजन 508 1  
मंगलोत्सव 796.1  
मुख्य घटना 466 14  
विवाह उत्सव 799 2  
संस्कार 798 1  
साध्य 518 16  
**कार्य अंतराल**  
कार्य अंतराल 494 4 ⇨  
**कार्य अक्षम**  
कार्य अक्षम 488 16 ⇨  
**कार्य अक्षमता**  
कार्य अक्षमता 488 5 ⇨  
**कार्य अनिच्छा**  
असावधानी 498 1  
**कार्य अवकाश**  
विश्राम काल 494 2  
**कार्य अवरोधक**  
विघ्न कर्ता 1047 29  
**कार्य असमाप्ति**  
कार्य असमाप्ति 523 1 ⇨  
**कार्य असिद्धि**  
असफलता 513 1  
**कार्य आरंभ**  
कार्य आरंभ 521 1 ⇨  
**कार्य आरंभ करना**  
कार्य आरंभ करना 521 5 ⇨  
**कार्य करण**  
कार्यान्वयन 505 5  
**कार्यकर्ता**  
कर्मचारी 652 27  
कार्यकर्ता 506 9 ⇨  
कार्यान्वय कर्ता 505 28  
**कार्यकारिणी**  
कार्य समिति 692 22  
**कार्यकारिणी समिति**  
कार्य समिति 692 22  
**कार्यकारिता**  
तदर्थ नियुक्तता 653 22  
**कार्यकारी**  
तदर्थ नियुक्त 653.39  
**कार्यकारी होना**  
कार्यकारी होना 653.29 ⇨  
**कार्यक्रम**  
कार्यक्रम 520 4 ⇨  
कार्यक्रम सूची 993 2  
**कार्यक्रम अंत**  
यवनिका पात 606 3  
**कार्यक्रम पत्रिका**  
कार्यक्रम सूची 993.2  
**कार्यक्रम सूची**  
कार्यक्रम सूची 993.2 ⇨  
**कार्यक्रम से**  
कार्यक्रमानुसार 520.22

**कार्यक्रमहीन**  
योजनाहीन 520 21  
**कार्यक्रमहीनता**  
योजनाहीनता 20 15  
**कार्यक्रमानुसार**  
कार्यक्रमानुसार 520 22 ⇨  
**कार्यक्रमेण**  
काल क्रमानुसार 991 31  
**कार्यक्षम**  
कार्यक्षम 487 27 ⇨  
**कार्य क्षमता**  
कार्य क्षमता 487 9 ⇨  
**कार्य क्षमता खोना**  
कार्य क्षमता खोना 488 8 ⇨  
**कार्यक्षम होना**  
कार्यक्षम होना 487 15 ⇨  
**कार्य क्षेत्र**  
अधिकार क्षेत्र 897 2  
**कार्यक्षेत्र**  
कार्यक्षेत्र 506 2 ⇨  
**कार्य ग्रहण**  
कार्य ग्रहण 653 11 ⇨  
**कार्य ग्रहण करना**  
कार्य ग्रहण करना 653 25 ⇨  
**कार्य चितक**  
कर्तव्य पालक 895 12  
**कार्य चिंतन**  
कर्तव्य पालन 895 5  
**कार्यणी**  
प्रक्रिया पुस्तक 446 22  
**कार्यता**  
करणीयता 505 3  
साध्यता 518 4  
**कार्य दर्शक**  
पर्यवेक्षक 284 22  
**कार्य दर्शन**  
पर्यवेक्षण 284 21  
**कार्य दर्शी**  
पर्यवेक्षक 284 22  
**कार्य दिवसांत**  
कार्य दिवसांत 494 3 ⇨  
**कार्य द्वेष**  
कामचोरी 490 2  
**कार्य द्वेषी**  
कामचोर 490 10  
**कार्य निदेश**  
निदेश 347 2  
**कार्य निदेशिका**  
प्रक्रिया पुस्तक 446 22  
**कार्यनिष्ठ**  
कर्तव्य पालक 895 12  
सावधान 497 4  
**कार्य निष्ठा**  
कर्तव्य पालन 895 5  
सावधानी 497 1  
**कार्य निष्पादन**  
कार्यान्वयन 505 5

**कार्य नीति**  
कार्य नीति 517 6 ⇨  
**कार्य पंजी**  
कार्य पंजी 632 12 ⇨  
**कार्य पटल**  
वर्क बैच 595 38  
**कार्य परिषद**  
कार्य समिति 692 22  
**कार्य पर्यवेक्षक**  
पर्यवेक्षक 284 22  
**कार्य पालन**  
कार्यान्वयन 505 5  
**कार्य पालिका**  
कार्य पालिका 881 27 ⇨  
कार्य समिति 692 22  
राज्य अग सूची 881 25  
**कार्य पालिका अध्यक्ष**  
शासन अध्यक्ष 882 4  
**कार्य पुस्तिका**  
अलमनाक 41 3  
**कार्य पूर्ति**  
कार्य समाप्ति 522 1  
**कार्य पूर्ति: दायित्व**  
ठेका 659 13  
**कार्य प्रक्रम**  
प्रक्रिया 514 5  
**कार्य प्रदान**  
पद नियुक्ति 653 6  
**कार्य बताना**  
निदेशन करना 347 9  
**कार्य बाधा**  
विघ्न 1047 12  
**कार्य भार**  
कार्य भार 653 9 ⇨  
दायित्व 895 1  
**कार्य भार ग्रहण**  
कार्य ग्रहण 653 11  
**कार्य भारी**  
कार्य भारी 653 10 ⇨  
**कार्यभंग**  
व्यस्त 502 13  
**कार्यमनता**  
व्यस्तता 502 4  
**कार्य मध्य**  
कार्य मध्य 996.5 ⇨  
**कार्य मध्य में**  
कार्य मध्य में 996.9 ⇨  
**कार्य यात्रा**  
दौरा 1087 12  
**कार्य योजना**  
कार्यक्रम 520 4  
योजना 520 1  
**कार्यरत**  
व्यस्त 502 13  
**कार्यरतता**  
व्यस्तता 502.4  
**कार्यरत न होना**  
प्रवृत्त न होना 503.7

**कार्यरत होना**  
प्रवृत्त होना 502 5  
**कार्यरति**  
प्रयुक्ति 502 1  
**कार्यलीन**  
व्यस्त 502 13  
**कार्यलीनता**  
व्यस्तता 502 4  
**कार्य वस्तु**  
उद्देश्य 508 2  
**कार्य यहन**  
तदर्थ नियुक्तता 653 22  
**कार्य वाहक**  
कार्यान्वय कर्ता 505 28  
तदर्थ नियुक्त 653 39  
**कार्यवाह संख्या**  
कोरम 941 2  
**कार्यवाही**  
कार्य विवरण 449 9  
कार्यान्वयन 505 5  
सभा काररवाई 694 21  
**कार्य विधान**  
प्रक्रिया 514 5  
**कार्य विधि**  
कार्य विधि 514 1 ⇨  
**कार्य विधि निर्देश**  
विधि निर्देश 514 2  
**कार्य विधि पालन करना**  
कार्यविधि पालन करना 514 10  
**कार्यविधि पालन करना**  
कार्यविधि पालन करना 514 10 ⇨  
**कार्य विधीय**  
कार्य विधीय 514 13 ⇨  
**कार्य विवरण**  
कार्य विवरण 449 9 ⇨  
**कार्य विशेषण**  
क्रिया विशेषण 425 10  
**कार्य विश्राम**  
विश्राम काल 494 2  
**कार्य वृत्त**  
कार्य विवरण 449 9  
**कार्यवृत्त पुस्तिका**  
कार्यवृत्त बही 632 13  
**कार्यवृत्त बही**  
कार्यवृत्त बही 632.13 ⇨  
**कार्य व्रत**  
सकल्प 500 1  
**कार्य शक्ति**  
क्षमता 487 7  
**कार्यशाला**  
कार्यशाला 654.2 ⇨  
**कार्यशील**  
परिश्रमी 493 9  
**कार्य शैली**  
कार्य विधि 514 1  
**कार्य संपादन**  
कार्यान्वयन 505 5

## कार्य समापक

### कार्य समापक

कार्य समापक 522.5 ⇨

### कार्य समापन

कार्य समापन 522.2 ⇨

### कार्य समापन करना

कार्य समापन करना 522.3 ⇨

### कार्य समाप्त करना

कार्य समाप्त करना 522.3

### कार्य समाप्ति

कार्य समाप्ति 522.1 ⇨

### कार्य समिति

कार्य समिति 692.22 ⇨

### कार्य साधक

अवसरवादी 827.18

### कार्य साधन

कार्यान्वयन 505.5

### कार्य साधना

अवसरवादित्वा 827.3

कार्यान्वयन करना 505.12

### कार्य सूची

कार्य सूची 993.3 ⇨

सभा कार्य सूची 993.4

### कार्य से कारण का आगम

आगम तर्कण 325.12

### कार्य स्थान

कार्य स्थान 654.1 ⇨

### कार्यहीन

आजीविकाहीन 649.11

### कार्यहीनता

अकार्यान्वयन 505.6

### कार्यांत

कार्य दिवसात 494.3

### कार्याक्षमता

कार्य अक्षमता 488.5

### कार्याध्यक्ष

कार्याध्यक्ष 652.17 ⇨

### कार्यान्वयक

कार्यान्वय कर्ता 505.28

### कार्यान्वय कर्ता

कार्यान्वय कर्ता 505.28 ⇨

### कार्यान्वयन

कार्यान्वयन 505.5 ⇨

### कार्यान्वयन करना

कार्यान्वयन करना 505.12 ⇨

### कार्यान्वयनीय

कार्यान्वयनीय 505.25 ⇨

### कार्यान्वित

कार्यान्वित 505.27 ⇨

### कार्यान्वित करना

कार्यान्वयन करना 505.12

### कार्यान्वित न करना

न करना 505.14

### कार्यान्वित होना

कार्यान्वित होना 505.13 ⇨

### कार्यान्विति

आज्ञा पालन 347.6

### कार्याभ्यास

अभ्यास 303.5

### कार्यारंभ

कार्य आरंभ 521.1

### कार्यारंभक

आरंभ कर्ता 521.7

### कार्यालय

कार्यालय 654.3 ⇨

### कार्यालय कर्मचारी

कार्यालय कर्मी 652.34

### कार्यालय कर्मी

कार्यालय कर्मी 652.34 ⇨

### कार्यावरोध

विघ्न 1047.12

### कार्यावली

प्रक्रिया पुस्तक 446.22

सभा कार्य सूची 993.4

### कार्यक्षक

पर्यवेक्षक 284.22

### कार्यक्षण

पर्यवेक्षण 284.21

### कार्यर (अँ)

उत्कीर्ण कर्ता 406.20

### कार्यरिग (अँ)

उत्कीर्ण कृति 406.24

उत्कीर्णन 406.19

उत्कीर्ण मूर्ति 406.7

मूर्ति कर्म 406.17

### कार्ष्ण

कृष्ण विषयक 771.99

### कार्ष्णि

कृष्ण विषयक 771.99

प्रचुम्न 771.73

### कालंजर

शिव 767.1

### काल

अवसर 70.1

इतिहास काल 76.2

ऋतु 51.13

कर्मसाक्षी देवता सूची 772.18

काल 36.1 ⇨

काल 773.21 ⇨

क्रिया काल 425.8

घड़ी समय 50.3

चार आयाम सूची 964.13

तीन उपमान सूची 948.22

दुर्लभता 942.5

नाश 531.1

नियत काल 39.1

महाकाल शैव 767.30

मृत्यु 249.1

यमराज 256.1

युग 40.1

वर्षाहीनता 54.2

विश्वेदेय सूची 777.10

विष्णु 768.1

विष्णु मूर्ति सूची 746.7

शनि ग्रह 7.8

### काल (दे.)

काल 773.21

घतुर्थ आयाम 964.15

### काल (भराटी)

विगत कल 46.13

### काल आधार

कालानुसार आचरण 808.2

### काल और दिशा

दिक्काल 964.16

### कालकंठ

खजन 126.24

गौरैया 126.30

मोर 126.68

शिव 767.1

### कालकंठिनी

मादा मोर 126.69

### कालक

यकृत 148.7

### काल कथलित होना

मरना 249.18

### काल का प्राप्त बनना

मरना 249.18

### काल का चक्का

कालचक्र 36.3

### काल का पहिया

कालचक्र 36.3

भाग्य चक्र 260.15

### कालकाल

शिव 767.1

### कालकुंज

विष्णु 768.1

### काल कोठरी

काल कोठरी 868.24 ⇨

तग कोठरी 614.4

### काल क्रम

काल क्रम 991.8 ⇨

### काल क्रमानुसार

काल क्रमानुसार 991.31 ⇨

### काल क्रमिक

काल क्रमिक 991.24 ⇨

### कालक्रमेण

काल क्रमानुसार 991.31

### काल क्षेप

काल क्षेप 36.8 ⇨

### काल क्षेप होना

काल क्षेप होना 36.15 ⇨

### काल गणना

समय विज्ञान 41.8

### कालगति

अग्नि 106.1

कालचक्र 36.3

भाग्य चक्र 260.15

### कालगर्ल

कालगर्ल 807.3 ⇨

### कालगर्ल (अँ)

कालगर्ल 807.3

### कालचक्र

कालचक्र 36.3 ⇨

भाग्य चक्र 260.15

वानर सूची 781.7

सूर्य 8.1

### कालचक्र: अरे

कालचक्र: अरे 36.4 ⇨

### कालचक्र चलना

काल क्षेप होना 36.15

### कालचक्र: नाभि सूची

कालचक्र: नाभि सूची 36.5 ⇨

### कालचक्र: नेमि

कालचक्र: नेमि 36.6 ⇨

### कालजयी

अनश्वर 37.9

मृत्यु विजेता 250.17

### कालजयी कलाकृति

कालजयी कलाकृति 397.22 ⇨

### कालजात

कालजात 62.17 ⇨

### कालजातता

कालजातता 62.5 ⇨

### कालजीत

अनश्वर 37.9

मृत्यु विजेता 250.17

### कालज्ञ

ज्योतिषी 261.2

नर मुरगी 126.65

समय विज्ञानी 41.9

### कालज्येष्ठ

वयस्क 229.21

### काल ज्योतिष

समय विज्ञान 41.8

### काल ज्योतिषी

समय विज्ञानी 41.9

### कालत्र (प्र)

ब्लैक होल 3.5

### काल त्रय

त्रिकाल 36.9

### काल धर्म

कालानुसार आचरण 808.2

### काल धारा

कालचक्र 36.3

### काल नक्षत्र

ब्लैक होल 3.5

### कालनाथ

शिव 767.1

### काल निर्णय

समय विज्ञान 41.8

### कालनिशा

अमावस रात 48.5

### कालनेमि

दानय सूची 783.13

दैत्य सूची 783.19

राक्षस सूची 784.4

### कालनेमि: अवतार

कंस 771.48

### कालनेमिहा

विष्णु 768.1



- काल पक्षी**  
काल पक्षी 367 ⇨
- काल परिघय**  
पुस्तक अत 447 13
- काल परिपक्व**  
कालजात 62 17
- काल परिपक्वता**  
कालजातता 62 5
- कालपाशा**  
फॉसी मृत्यु दंड 871 5
- कालः पुत्री**  
विस्त्रसा 774 87
- काल पुरुष**  
अनादि अनत काल 36 2  
ईश्वर 764 1  
चक्रवात 85 10  
धमराज 256 1
- कालपूर्व**  
पूर्वजात 62 19  
समय पूर्व 62 15
- कालपूर्वता**  
पूर्वजातता 62 7
- काल प्रवाह**  
कालचक्र 36 3
- काल प्रवाह होना**  
काल क्षेप होना 36 15
- कालबैल (अं)**  
आवाहन घटी 461 32
- काल भेद**  
समय क्षेत्र अंतर 50 5
- काल भैरव**  
भैरव गण सूची 767 33  
शिव 767 1
- कालम**  
स्थायी स्तम्भ 447 16
- कालमकार**  
स्तम्भ लेखक 445 23
- कालम लेखक**  
स्तम्भ लेखक 445 23
- कालमान**  
घड़ी 50 16
- काल मापी**  
घड़ी 50 16
- काल यंत्र**  
काल यंत्र 964 18 ⇨
- काल यवन**  
काल यवन 771 48 ⇨
- काल यवन भस्म कर्ता**  
मुयुकुद 771 78
- काल यात्रा**  
काल क्षेप 36 8
- काल यापन**  
काल क्षेप 36 8
- काल योग**  
प्रारब्ध 260.1
- कालयोगी**  
शिव 767 1
- कालर**  
ऊसर 552 3  
गोबान कालर 585 67
- कालरात्रि**  
कालरात्रि 7/4 24 ⇨  
कालरात्रि 48 9 ⇨  
दुर्गा 776 7
- काललौह**  
इस्यात 93 11  
स्टेनलेस स्टील 93 15
- काल वर्षा**  
अति वर्षा 54 6
- काल विज्ञानी**  
समय विज्ञानी 41 9
- काल विपाक**  
कालजातता 62 5
- कालवृष्टि**  
अति वर्षा 54 6
- काल व्यतीति**  
काल क्षेप 36 8
- काल शय्या**  
मृत्यु शय्या 249 11
- कालशाक**  
पटसन 568 3
- काल सत्य**  
युग सत्य 820 5
- कालसर्प**  
कोबरा 123 19
- काल सूची**  
घड़ी सूई 50.27
- कालसूर्य**  
ब्लैक होल 3 5
- कालहीन**  
अनश्वर 37 9  
आयामहीन 964 21
- कालहीनता**  
अनश्वरता 37 3  
आयामहीनता 964 3
- काल होना**  
दुर्लभ होना 942 11
- कालांतर**  
कालांतराल 60 4
- कालांतर में**  
कालांतर मे 60 16 ⇨
- कालांतराल**  
कालांतराल 60 4 ⇨
- काला**  
काला 289 37 ⇨  
कृष्ण 771 1  
बोल्ड 413 15
- काला [काली]**  
अंधकारपूर्ण 286 14  
अकल्याण सूचक 711 10  
काला 289 37  
ताराहीन 3 17  
दुर्जन 818 5  
धूम्रपूर्ण 106 26  
लाछिल 843 23
- काला अक्षर**  
निरक्षरता 320 2
- काला अक्षर मैस बराबर**  
निरक्षर भट्टाचार्य 320 3
- काला कलूटा [काली कलूटी]**  
गहरा काला 289 38
- काला किरट**  
गहरा काला 289 38
- कालाख्या तनु**  
ब्रह्मा सृष्टिकालीन तनु सूची 766 2
- काला गेहुँअन**  
कोबरा 123 19
- काला गोरा**  
काला सफेद 289 76
- काला जादू**  
अपकारक जादू 474 7
- काला जाम**  
काला जाम 203 33 ⇨
- काला टीका**  
लाछन तिलक 843 8
- काला तख्ता**  
ब्लैक बोर्ड 415 4
- कालातिपात**  
समयोपरातता 62 4
- कालातीत**  
अनश्वर 37 9  
अपरिवर्तनशील 533 10  
प्राचीन 63 6  
मृत्यु विजेता 250 17
- कालातीतता**  
अनश्वरता 37 3  
अपरिवर्तनशीलता 533 2
- काला धंधा**  
चोर बाज़ार 865 12
- काला धन**  
काला धन 865 3 ⇨
- काला धन तस्करी**  
काला धन तस्करी 865 4 ⇨
- काला धन शोधन**  
काला धन शोधन 865 5 ⇨
- कालाध्यक्ष**  
ईश्वर 764 1  
सूर्य 8 1
- काला नमक**  
काला नमक 279 6 ⇨  
त्रिलवण सूची 279 3
- कालानल**  
प्रलयान्नि 106 3  
बड़वा दीप्ति 287 18  
रुद्र 767 34
- काला नाग**  
कोबरा 123 19  
गहरा काला 289 38
- कालानुक्रमिक**  
काल क्रमिक 991 24
- कालानुसार**  
समयानुसारत 61.7
- कालानुसार आचरण**  
कालानुसार आचरण 808 2 ⇨
- कालाप**  
केश 137 1
- कालापन**  
कालिमा 289 12
- काला पहाड़**  
कठिन कार्य उपमान सूची 487 34
- काला पानी**  
आजीवन कारावास 868 14
- काला पैसा**  
काला धन 865 3
- काला मेघ**  
काला मेघ 55 3 ⇨
- कालायस**  
लांहा 93 7
- काला रेशम**  
काला रेशम 578 19 ⇨
- कालायधि**  
नियत काल 39 1
- कालाशौच**  
जनन अशौच 198 8
- काला संग मरमर**  
काला नग मरमर 99 10 ⇨
- काला सफेद**  
उत्तम अनुत्तम 313 10  
काला सफेद 289 76 ⇨  
विपरीतता उपमान सूची 310 13
- कालिग**  
तरबूज 190 21
- कालिदक**  
तरबूज 190 21
- कालिदी**  
कृष्ण आठ पत्नी सूची 771 12  
यमुना 20 18
- कालिदी कर्षण**  
बलराम 771 74
- कालिदीसू**  
सज्ञा 774 94
- कालिक**  
अवसरिय 70 13  
कालीन 36 16
- कालिका**  
करखा 549 8  
कालिका 776 2 ⇨  
काली 776 3  
दुर्गा मूर्ति सूची 746 4  
मेघ समूह 55 2  
श्यामा 126 73
- कालिख**  
कालिख 106 18 ⇨  
कालिमा 289 12  
लाछन 843 7
- कालिज (अं)**  
शिक्षालय सूची 321 11
- कालिमा**  
अंधकार 286 1  
कालिख 106 18

## कालिय

- कालिमा 289 12 ⇨  
स्याही 416 25  
कालिय  
कालिय नाग 778 19  
कालिय नाग  
कालिय नाग 778 19 ⇨  
कालियमर्दन  
कृष्ण 771 1  
कालिया  
कालिय नाग 778 19  
काली  
अधकार 286 1  
अग्नि जिह्वा सूची 106 10  
काली 776 3 ⇨  
दुर्गा 776 7  
नवकुमारी सूची 774 29  
रात 48 1  
वीर स्त्री उपमान 396 4  
सत्यवती 771 95  
काली (कविता)  
कालिय नाग 778 19  
काली: अनुचरी  
डाकिनी 786 7  
कालीक  
- क्रौंच 126 23  
काली कमली याला  
मुहम्मद 791 20  
काली घटा  
काला मेघ 55 3  
काली धिट्टी  
मृत्यु सूचना पत्र 253 20  
काली जाति  
काली जाति 730 9 ⇨  
काली जीभ बाला  
अकल्याण भाषी 711 12  
कालीन  
ऋतु कालीन 51 16  
कालीन 36 16 ⇨  
कालीन  
कालीन 593 37 ⇨  
काली नज़र  
नज़र 711 5  
काली: नर अनुचर  
डाक 786 6  
काली बाकी  
काली मंदिर 745 33  
काली मंदिर  
काली मंदिर 745 33 ⇨  
काली माई  
काली 776 3  
काली मिट्टी  
काली मिट्टी 100 11  
काली मिट्टी  
काली मिट्टी 100 11 ⇨  
काली मिर्च  
काली मिर्च 278 4 ⇨  
कालीय  
कालीन 36 16

- काली रात  
अंधेरी रात 48 3  
कालरात्रि 48 9  
काली लसदार भूमि  
करैल 552 4  
कालुष्य  
मलिनता 217 1  
वैमनस्य 706 10  
कालेश  
शिव 767 1  
काले सिर का  
युधक 231 8  
काले सिर की  
युधती 231 9  
कालोधित  
अयसरानुकूल 70 14  
कालोनाइज़र (अँ)  
बस्ती निर्माता 599 6  
कालोनी (अँ)  
उपनिवेश 881 11  
बस्ती 619 1  
महल्ला 619 6  
कालौंछ  
कालिख 106 18  
कालिमा 289 12  
काल्पनिक  
अवारस्तयिक 821 20  
अव्यावहारिक 829 8  
कल्पनापूर्ण 308 14  
काल्पनिक 308 18 ⇨  
तथ्यहीन 821 22  
काल्पनिकता  
अथास्तयिकता 821 9  
तथ्यहीनता 821 11  
काल्पनिकतापूर्ण  
कल्पनापूर्ण 308 14  
काल्पनिक नेत्र  
तीसरा नेत्र 141 2  
काल्पनिक पशु  
होआ 785 8  
काल्पनिक संसार  
किताबी ज्ञान 305 12  
काल्ह  
कल 46 12  
कावरौंग  
अड़वाल 1073 22  
कायाबाज़ी  
अश्व प्रशिक्षण 555 10  
कावेरी  
भारत उपमहाद्वीप नदी सूची 207  
येरथा 807 5  
कावेरी नदी  
कावेरी नदी 20.8 ⇨  
काय्य  
ऋषि विषयक 789 26  
कविता 451 16  
काय्य 451.7 ⇨  
काय्य कृति 451 15

- पद्य 451 4  
शुक्राचार्य 789 23  
साहित्य 450 1  
काय्य अलंकार  
काय्य अलंकार 454.1 ⇨  
काय्य आत्मा  
काय्य रस 455 1  
काय्य कथा वाचन  
कथा गायन 749 16  
काय्य कला  
कला सूची 397 12  
काय्यकार  
कवि 448.13  
काय्य कृति  
काय्य कृति 451.15 ⇨  
काय्य गुण  
काय्य गुण 453 3 ⇨  
काय्य गुण सूची  
काय्य गुण सूची 453 4 ⇨  
काय्य गोष्ठी  
काय्य गोष्ठी 694 9 ⇨  
काय्य: छंद  
छंद 452 1  
काय्य दोष  
काय्य दोष 453 5 ⇨  
काय्य दोष सूची  
काय्य दोष सूची 453 6 ⇨  
काय्य पद  
काय्य पद 452 46 ⇨  
काय्य पदांश  
काय्य पदांश 452 47 ⇨  
काय्य पदांश सूची  
काय्य पदांश सूची 452 48 ⇨  
काय्य परिपक्वता  
काय्य पाक 453 10  
काय्य पाक  
काय्य पाक 453.10 ⇨  
काय्य प्रवृत्ति  
काय्य प्रवृत्ति 453 13 ⇨  
काय्य प्रेमी  
काय्य प्रेमी 400 19 ⇨  
काय्य विंब  
काय्य विंब 454 11 ⇨  
काय्य मान्यता  
कवि सत्य 820 4  
काय्य मीमांसक  
काय्य शास्त्री 453.2  
काय्य रचना  
काय्य कृति 451.15  
काय्य रस  
काय्य रस 455 1 ⇨  
काय्य रसिक  
काय्य प्रेमी 400 19  
काय्य रीति  
काय्य प्रवृत्ति 453 13  
काय्य शास्त्र  
काय्य शास्त्र 453 1 ⇨

- काय्य शास्त्र: भाव  
काय्य शास्त्र भाव 358.2 ⇨  
काय्य शास्त्री  
काय्य शास्त्री 453.2 ⇨  
काय्य शास्त्रीय सिद्धांत  
काय्य सिद्धांत 453 11  
काय्य संकलन  
काय्य संकलन 446.24 ⇨  
काय्य संग्रह  
काय्य संकलन 446 24  
काय्य समस्या  
काय्य समस्या 694.12 ⇨  
काय्य समस्या पूरण  
घोसठ कला सूची 397 4  
काय्य समस्या पूर्ति  
काय्य समस्या पूर्ति 694 13 ⇨  
काय्य सिद्धांत  
काय्य सिद्धांत 453 11 ⇨  
काय्य सिद्धि  
काय्य पाक 453 10  
काय्य हास्य  
प्रहसन 450 28  
काय्यहीन कविता  
काय्यहीन कविता 451 17 ⇨  
काय्या  
पूतना 784 25  
काय्यात्मक  
काय्यात्मक 451 29 ⇨  
काय्यात्मक गद्य  
काय्यात्मक गद्य 451.3 ⇨  
काय्यार्थ अभिनय  
नृत्य नाट्य 462 2  
काय्यालंकार  
काय्य अलंकार 454 1  
काय्य शास्त्र 453 1  
काश  
काश 375 12 ⇨  
काश रृण  
कॉस घास 11 7  
काशि  
प्रकाश 287 1  
काशीनाथ  
शिव 767 1  
काशीनो (इतालवी)  
कैसिनो 481 15  
काशीफल  
कटू 189.10  
काशत  
कृषि 546 1  
हल कर्म 548.3  
काशतकार  
कृषक 548.2  
काशतकारी  
कृषि 548 1  
काश्मीर  
काश्मीर 28.31  
केसर 274 16

<b>कारयप</b>	प्राकृतिक जलाशय 18 5	कोयल 126 21	<b>किन्न</b> (बीज रूप)
अरुण 777 14	<b>क्रासिद</b>	तोता 126 44	किलोग्राम 962 30
<b>त्रयि मुनि सूची</b> 789 17	पत्र वाहक 444 18	बबूल 13 15	<b>किचकिच</b>
<b>कारयपि</b>	संदेश वाहक 143 3	<b>किंग साइज (अँ)</b>	कर्कश सौदेबाज़ी 658 7
अरुण 777 14	<b>कासीस</b>	बड़ा साइज 961 13	तकरार 708 7
गरुड़ 777 15	कसीस 214 7	<b>किंचित</b>	<b>किचकिच करना</b>
<b>कारयपी</b>	<b>कासृति</b>	अल्प 942 13	तकरार करण 708 11
पृथ्वी 9 1	गुप्त मार्ग 1065 2	<b>किचिद</b>	<b>किचकिचाना</b>
<b>कारयपेय</b>	पगडंडी 1063 47	अल्प 942 13	तकरार करना 708 11
आदित्य 777 1	<b>कास्क (अँ)</b>	<b>किचिन्मात्र</b>	<b>किचकिचिया</b>
<b>काष</b>	पीपा 678 13	अत्यल्प 942 16	तकरारी 708 14
सान 559 34	<b>कास्टर (अँ)</b>	<b>किंचिलुक</b>	<b>किचन (अँ)</b>
<b>काषाय</b>	कास्टर पहिया 1077 3	केचुआ 122 7	रसोई घर 195 1
कसियाया [कसियाई] 197.44	<b>कास्टर पहिया</b>	<b>किजल्क</b>	<b>किचन गार्डन</b>
गेरुआ 289 43	<i>कास्टर पहिया 1077 3 ⇨</i>	केसर 115 11	<i>किचन गार्डन 551 11 ⇨</i>
<b>काष्ठ</b>	<b>कास्टिंग (अँ)</b>	पीला 289 54	<b>किचन गार्डन (अँ)</b>
काष्ठ 597.1 ⇨	दलाई 565 7	<b>किडरगार्टन (अँ)</b>	किचन गार्डन 551 11
जलावन लकड़ी 110 5	<b>कास्टिंग बोट (अँ)</b>	शिक्षालय सूची 321 11	<b>किचन मशीन</b>
<b>काष्ठ आवरण</b>	निर्णायक मत 889 12	<b>किंतु</b>	<i>किचन मशीन 560 2 ⇨</i>
काष्ठ आवरण 990 14 ⇨	<b>कार्टिक सोडा (अँ)</b>	आपत्ति 326 4	<b>किचन मशीन (अँ)</b>
<b>काष्ठ कर्म</b>	सोडा 220 31	<i>किंतु 507 16 ⇨</i>	किचन मशीन 560 2
काष्ठ कर्म 597 23 ⇨	<b>कास्थि</b>	बल्कि 507 18	<b>किचन रेज (अँ)</b>
<b>काष्ठ कर्मी</b>	उपास्थि 133 2	<b>किंतु परंतु</b>	कुकिंग रेज 109 18
काष्ठ कर्मी 597 24 ⇨	<b>कार्मैटिक्स (अँ)</b>	आपत्ति 326 4	<b>किचनेट (अँ)</b>
<b>काष्ठ कौट</b>	मेकअप सामग्री 225 9	<i>किंतु परंतु 507 17 ⇨</i>	किचन मशीन 560 2
घुन 122 19	<b>काह</b>	परतुकता उक्ति सूची 339 54	<b>किचपिच</b>
<b>काष्ठद्रु</b>	व्या 316 2	बहानेबाज़ी 495 5	अव्यवस्थित समूह 690 4
पलाश 13 13	<b>काहल</b>	<b>किदील</b>	तकरार 708 7
<b>काष्ठ निर्यास</b>	अस्पष्ट उच्चारण 299 10	फानूस 285 21	फिसलाहट 1084 14
वृक्ष निर्यास 84 8	कौआ 126 22	<b>किपुरुष</b>	<b>किचपिचिया</b>
<b>काष्ठ पटल</b>	म्लान 120 11	किन्नर 778 1	तकरारी 708 14
काष्ठ पटल 990 6 ⇨	<b>काहिल</b>	<b>कि बहुना</b>	<b>किचर पिचर</b>
<b>काष्ठ पात्र</b>	आलसी 490 14	काराश उक्ति सूची 449 34	अव्यवस्थित समूह 690 4
कवौता 679 43	स्फूर्तिहीन 492 14	<b>किचदंती</b>	<b>किट (अँ)</b>
<b>काष्ठ पुतलिका</b>	<b>काहिली</b>	जनश्रुति 424 13	उपकरण समुदाय 687 2
कठपुतली 473 5	आलस्य 490 5	लोक कथा 450 7	<b>किटकिट</b>
<b>काष्ठ बेड़ी</b>	फिसडंडीपन 1095 6	<b>किआ</b>	कर्कश सौदेबाज़ी 658 7
काष्ठ बेड़ी 868 26 ⇨	स्फूर्तिहीनता 492 3	अथवा 945 13	तकरार 708 7
<b>काष्ठ मूर्ति</b>	<b>काहे</b>	<b>किशार</b>	<b>किटकिटली सर्दी</b>
काष्ठ मूर्ति 406 8 ⇨	वयो 507 9	कपल नोक 113 9	कड़ी सर्दी 53 2
<b>काष्ठ वेधक</b>	<b>किकर</b>	<b>किशुक</b>	<b>किटकिटाना</b>
घुन 122 19	सेवक 651 25	पलाश 13 13	ठिबुरना 105 18
<b>काष्ठ सूची</b>	<b>किकरता</b>	<b>कि</b>	<b>किटकिटाहट</b>
काष्ठ सूची 597 2 ⇨	दासता 651 7	अथवा 945 13	ठिबुरन 105 4
<b>काष्ठा</b>	सेवा 651 1	अपूर्ण सभावना उक्ति सूची 68 22	<b>किटकिटी</b>
घुड़दौड़ मैदान 1063.28	<b>किकररी</b>	<b>किए</b>	ठिबुरन 105 4
धक्र चौथा भाग 960 3	सेविका 651 26	कृतत 505 33	<b>किटकिरा</b>
दिशा 29 1	<b>किकरतव्य</b>	परिश्रमपूर्वक 493 14	सुनार ठप्पा 414.14
<b>कास</b>	दुबिधा 501 1	<b>किए का फल भोगना</b>	<b>किट बैग</b>
कॉस घास 11 7	<b>किकरतव्य विमूढ़</b>	प्रतिफल भोगना 510 8	<i>किट बैग 673 6 ⇨</i>
खौंसी 163.14	दुबिधाग्रस्त 501 8	<b>किए से</b>	<b>किट बैग (अँ)</b>
छींक 163 15	<b>किकरतव्य विमूढ़ता</b>	कृतत 505 33	किट बैग 673.6
<b>कासा</b>	दुबिधाग्रस्तता 501.2	<b>किकियाना</b>	<b>किटिका</b>
कटोरा 683 1	<b>किकिणी</b>	आर्तनाद करना 386 17	घर्म कवच 921.3
प्याला 684.12	करधनी 228.7	रोना 386.16	<b>किट्ट</b>
शिक्षा भांड सूची 642 12	<b>किकिरात</b>	<b>किकियाहट</b>	तलघट 526.7
<b>कासार</b>	अशोक 13 4	कूकू 298 12	<b>किट्टक</b>
तालाब 18.10	कामदेव 773 12		तलघट 528.7

## किण्टी

धातु मल 214 5  
**किण्टी**  
 घिट फड 633 13  
**किण्ड (अँ)**  
 अजा धर्म 582 6  
**किण्डकिण्ड**  
 घटघटाहट 297 16  
 तकरार 708 7  
**किण्डकिण्डिया**  
 तकरारी 708 14  
**किण्डनेपर (अँ)**  
 अपहर्ता 862 8  
**किण्डनेपिंग (अँ)**  
 अपहरण 862 1  
**किण्य**  
 किण्यक 195 11  
 खमीर 195 12  
**किण्यक**  
 किण्यक 195 11 ⇨  
**किण्यज**  
 ऐनज़ाइम 179 7  
**किण्यन**  
 उद्बुजन 117 3  
 किण्यन 195 10 ⇨  
**किण्यानु**  
 ऐनज़ाइम 179 7  
**किण्यित**  
 किण्यित 195 59 ⇨  
**किण्यित औषधः अर्क**  
 अरिष्ट 176 11  
**किण्यित करना**  
 किण्यित करना 195 44 ⇨  
**कित**  
 कहां 30 1  
 किधर 30.2  
**कितआ**  
 कित्ता 452 21  
**कितक**  
 कितना [कितनी] 946 11  
**कितना [कितनी]**  
 कितना [कितनी] 946 11 ⇨  
**कितनापन**  
 कितनापन 946 1 ⇨  
**कितनी मात्रा**  
 कितनापन 946 1  
**कितय**  
 छली 827 24  
 घूतकर 481 8  
 बटमार 864 34  
**कित्ता**  
 अदद 948 2  
 आवासीय भूखंड 598 3  
 कित्ता 452 21 ⇨  
 क्षेत्र 34 1  
 खड 938 1  
**किताब**  
 अपौरुषेय धर्मग्रंथ 738 3  
 इसलामी धर्मग्रंथ 739 1

पुस्तक 446 1  
 लेखा पुस्तक 632 8  
**किताब खाना**  
 पुस्तकालय 669 13  
**किताब घर**  
 पुस्तकालय 669 13  
**किताबत**  
 किताबत 413 7 ⇨  
**किताबत कर्मी**  
 कातिब 413 8  
**किताबी**  
 अव्यावहारिक 829 8  
 धर्म ग्रंथीय 738 5  
**किताबी कीड़ा**  
 किताबी कीड़ा 122.15 ⇨  
 कीट सूची 122 12  
 पठनशील 321 54  
**किताबी ज्ञान**  
 किताबी ज्ञान 305 12 ⇨  
**किताबी सिद्धांत**  
 अव्यावहारिक आदर्श 829.6  
**किताबों की अलमारी**  
 पुरतक अलमारी 671 7  
**कितेक**  
 कितना [कितनी] 946.11  
**किधर**  
 किधर 30 2 ⇨  
**किधौं**  
 अथवा 945 13  
**किन**  
 किन 316 5 ⇨  
**किनका**  
 अनाज खड 192 1  
 कणी 938 3  
**किनकी**  
 कणी 938 3  
**किन को**  
 किन्हे 316 30  
**किनयानी**  
 फुहार 1032 9  
**किनारा**  
 कत्री 571 33  
 किनारा 1000.10 ⇨  
 छिद्र मुख 271 15  
 छोर 1000 3  
 तट 25 8  
 नदी तट 25 11  
 नुक्कड़ 1064 8  
 परिधि 972 4  
 पलाय 586 24  
 पार्श्व 997 1  
 बरतन मुँह 680 22  
 बेला पथ 1066 12  
 सड़क पार्श्व 1064 1  
 हाशिया 1000 12  
**किनारा करना**  
 बाहर से गुजरना 1097.13

**किनाराकशी**  
 परित्याग 1003 1  
**किनारी**  
 कत्री 571 33  
 किनारा 1000.10  
 किनारी 571.34 ⇨  
**किनारे**  
 दूरी पर 32 10  
 विलगत 1011 7  
**किनारे का**  
 छोरस्थ 1000 15  
**किनारे की ओर**  
 पार्श्व की ओर 997 23  
**किनारे तक**  
 ऊपर तक 1004 17  
**किनारे तोड़ना**  
 सीमातिक्रमण करना 1001 32  
**किनारे पर**  
 छोर पर 1000 16  
**किनारे पहुँचना**  
 गतव्य प्राप्त होना 1100 5  
 पार लगना 1080 38  
**किनारे लगना**  
 गतव्य प्राप्त होना 1100.5  
 पार लगना 1080.38  
**किनारे लगा**  
 तटायोरित 1080.45  
**किनारे वाला**  
 छोरस्थ 1000 15  
**किनेमेटोग्राफ (अँ)**  
 फ़िल्म कैमरा 405 17  
**किन्नर**  
 किन्नर 778.1 ⇨  
 देव योनि सूची 772 37  
**किन्नरः पूर्वजा**  
 क्रोधा 787 12  
**किन्नर राज**  
 कुबेर 779 4  
**किन्नर वाद्य**  
 ताल वाद्य 461 13  
**किन्नर सखा**  
 कुबेर 779 4  
**किन्नर स्त्री**  
 किन्नर स्त्री 778.2 ⇨  
**किन्नरी**  
 किन्नर स्त्री 778.2  
**किन्ही**  
 किन 316.5  
**किन्हीं को**  
 किन्हे 316 30  
**किन्हें**  
 किन्हे 316.30 ⇨  
**किन्हों**  
 किन 316.5  
**किन्हों को**  
 किन्हें 316.30  
**किन्नायत**  
 बघत 645.1

बघत 645 1  
 मित व्यय 644.2  
 रिआयत 664.16  
**किन्नायत पर**  
 अल्पमूल्यत 664 39  
**किन्नायतशार**  
 मितव्ययी 644 23  
**किन्नायती**  
 अल्पमूल्य 664 32  
 मितव्ययी 644 23  
 रिआयती 664.35  
**किंबला**  
 परिधम 29 12  
**किंबलानुमा**  
 किंबलानुमा 29.19 ⇨  
**किमख़ाब**  
 कमख़ाब 580 5  
**किमर्थ**  
 क्या 507 9  
**किमारबाज़**  
 द्यूतकर 481 8  
**किमि**  
 कैसे 514 20  
**किमुत**  
 कितना [कितनी] 946 11  
**किमोनो**  
 किमोनो 585 21 ⇨  
**किमोनो (जापानी)**  
 किमोनो 585 21  
**किम्-**  
 क्या 316.2  
**कियत्-**  
 कितना [कितनी] 946 11  
**कियस्ता**  
 कितनापन 946.1  
 मात्रा 946 3  
**किया**  
 कार्य 506 1  
 कार्यान्वित 505 27  
**किया [की]**  
 कार्यान्वित 505 27  
 कृत 505 20  
 टोना कृत 759 19  
 मुँहबोला [मुँहबोली] 716.21  
**किया जाना**  
 किया जाना 505.11 ⇨  
**किया धरा**  
 कार्य 506 1  
**किरक**  
 सुअर शिशु 230 20  
**किरकिर**  
 खिसखिसाहट 297.9  
**किरकिरा [किरकिरी]**  
 अरोधक 401.10  
 किरकिरा [किरकिरी] 197.28 ⇨  
 रैतीला [रैतीली] 100.23  
**किरकिराहट**  
 किरकिराहट 297.5 ⇨

**किरकिरी**  
कणी 938 3  
*किरकिरी 938.7 ⇨*

**किरकिल**  
गिरगिट 123 3

**किरच**  
किरिच 938 38

**किरचा**  
किरिच 938 38

**किरची**  
किरिच 938 38

**किरण**  
अरा 1077 7  
अर्ध व्यास 972 14  
किरण 571 42  
प्रकाश किरण 288 1

**किरण केन्द्रण**  
सपुजन 288 4

**किरणन**  
केन्द्रण 971 7

**किरणपाणि**  
सूर्य 8 1

**किरण पुंजन**  
सपुजन 288 4

**किरण फूटना**  
आलोक होना 285 37

**किरण संकेत**  
अवतरण संकेत 1074 26

**किरणित**  
केन्द्रित 971 21  
सपुजित 288 10

**किरणदार**  
चरित्र पात्र 467 1

**किरण**  
*किरण 571.42 ⇨*

**किरीची**  
बेल ठेला 1071 44

**किराएदार**  
भाड़ेदार 622 23

**किराएदारी**  
लगानदारी 553.2

**किराए पर लेना**  
भाड़े पर लेना 622 20

**किरात**  
अश्वयान चालक 1079 5  
किरात जाति 732 5

**किरात जाति**  
*किरात जाति 732.5 ⇨*

**किरात जातीय**  
*किरात जातीय 732.16 ⇨*

**किरात पति**  
शिव 767.1

**किराति**  
गंगा नदी 20.10  
दुर्गा 776.7

**किराती**  
आकाश गंगा 1.14  
दूती 487.16

पार्यती 776 9

**किरातीय**  
किरात जातीय 732 16

**किराणा**  
परचून 666 8

**किराणा दुकान**  
परचून दुकान 662 9

**किरानी**  
क्लर्क 652 36  
पोत मुशी 1080 18  
सेल्समैन 661 16

**किराया**  
भाड़ा 622 10  
माल भाड़ा 622 12  
यात्रा भाड़ा 622 13

**किराया कृत**  
भाड़ा कृत 622 22

**किराया गाड़ी**  
भाड़ा गाड़ी 1068 11

**किराया दलाल**  
*किराया दलाल 1090 17 ⇨*

**किरासन**  
मिट्टी तेल 110 20

**किरासिन**  
मिट्टी तेल 110 20

**किरिच**  
*किरिच 938 38 ⇨*  
गाँस 938 12

**किरीट**  
मुकुट 584 14

**किरीट धारी**  
मुकुटधारी 899 18

**किरीटमाली**  
अर्जुन 771 36

**किरीटी**  
इंद्र 773 5  
मुकुटधारी 899 18  
राजा 882 6  
शिव 767 1

**किरोशिया**  
*किरोशिया 562 22 ⇨*

**किरोना**  
कीट 122 9

**किर्मी**  
धातु मूर्ति 406 11  
पलाश 13 13

**किर्मीष्ट**  
नारंगी 190 22  
राक्षस सूची 784.4

**किर् किर्**  
किरकिराहट 297 5

**किलक**  
आर्तनाद 386.3  
किलकारी 384.3

**किलकना**  
आर्तनाद करना 386.17  
किलकारना 384.9

**किलकारना**  
*किलकारना 384 9 ⇨*

**किलकारी**  
*किलकारी 384 3 ⇨*

**किलकारी मारना**  
किलकारना 384 9

**किलकिल**  
किलकारी 384 3  
क्रीड़ा 469 4

**किलकिला**  
जलपक्षी सूची 126 7

**किलकिलाना**  
किलकारना 384 9

**किलनी**  
*किलनी 122 16 ⇨*  
कीट सूची 122 12

**किलबिलाता [किलबिलाती]**  
कुलबुलाता [कुलबुलाती] 392 23

**किलबिलाहट**  
कुलबुलाहट 392 2

**किलमना**  
विलाप करना 386 23

**किलयिषी**  
पापी 812 12

**किलस**  
क्लेश 392 3

**किलसता [किलसती]**  
क्लेशग्रस्त 392 24

**किलसाऊ**  
क्लेशप्रद 392 25

**किला**  
दुर्ग 620 7  
हथेली 602 14

**किलाई**  
कील गड़ाई 1016 5

**किलादार**  
दुर्गपाल 891 8

**किला कलह करना**  
कठिन कार्य करना 487 17

**किलप्रदी**  
दुर्ग परकोटा 604 14  
दुर्गीकरण 907 12  
मोरघाबंदी 907 11

**किलेदार**  
दुर्गपाल 891.8  
नगर प्रशासक 891.7

**किलेबंदी**  
दुर्गीकरण 907 12

**किलो-**  
हज़ार 948.72

**किलो (बीज रूप)**  
किलोग्राम 962.30

**किलोग्राम**  
*किलोग्राम 962.30 ⇨*

**किलोग्राम (अँ)**  
किलोग्राम 962 30  
भार माप एकक 958.8

**किलोमीटर**  
*किलोमीटर 959 20 ⇨*

**किलोमीटर (अँ)**  
किलोमीटर 959 20

**किलोमीटर: पंद्रह करोड़ (लगभग)**  
अतिरिक्षीय एकक 959 29

**किलोमीटर प्रति घंटा**  
गति माप 958 26

**किलोमीटर वर्ग**  
वर्ग किलोमीटर 959 43

**किल्लत**  
अभावग्रस्तता 627 2  
दुर्लभता 942 5

**किल्ला**  
खूँटा 555 11  
चक्की धुरी 560.14  
बड़ी कील 1016 10

**किल्लाना**  
किलकारना 384 9

**किल्ली**  
अक्षाग्र कील 1077 14  
आभूषण पेष 1016 21  
आर्तनाद 386 3  
किलकारी 384 3  
कील 1016 8  
कीली 1016 15  
घटकनी 609 20  
घाबी 609 26  
दीवार खूँटी 1016.17  
सीटी ध्वनि 296 15

**किल्ली मारना**  
आर्तनाद करना 386 17

**किल्यिष**  
बेईमानी 816 2

**कियाड़**  
कपाट 609 5  
कपाट पल्ला 609.11

**कियाम**  
घाशानी 280 5

**किशान**  
कृष्ण 771 1

**किशान चंदर**  
कृष्ण 771 1

**किशाना**  
कृष्ण 771 1

**किशामिश**  
*किशामिश 191.5 ⇨*  
मेघा सूची 191 2

**किशालय**  
नव पल्लव 115.2

**किशोर**  
*किशोर 230.28 ⇨*  
घोड़ा: शिशु 230.16  
पुत्र 718 3  
बालक 230.23  
हनुमान 781 19

**किशोर [किशोरी]**  
पशु: शिशु 230.11

## किशोर अवस्था

किशोर अवस्था

किशोर अवस्था 230 27 ⇨

किशोरता

किशोर अवस्था 230 27

किशोर नवन

हनुमान 781 19

किशोरी

किशोरी 230 29 ⇨

बालिका 230 24

मुग्धा नायिका 456 8

किशतज्ञार

उर्वर (भूमि) 552 16

वनस्पतियुक्त 111 31

किशतवार

धारावाही 447 26

किशरी

ख्यान 685 11

नौका 1072 2

किष्किंधा

बाली राजधानी 781 16

किष्किंधा कांड

रामचरित मानस कांड 770 16

वाल्मीकि रामायण कंड सूची 770 14

किष्किंधा पर्वत

पौराणिक पर्वत सूची 17 8

किष्किंधा: राजा

बाली 781 13

किष्कु

अप्रहस्त 149.8

किस

किस 316 3 ⇨

किस और

किधर 30 2

किस कारण

क्यों 507 9

किस को

किसे 316 29

किस तरह

कैसे 514 20

किसन

कृष्ण 771 1

किसना

कृष्ण 771 1

किस प्रकार

कैसे 514 20

किस प्रकार का

कैसा 317 29

किसबत

किट बैग 673 6

किसमिस

किशमिश 191 5

किसलय

नव पल्लव 115 2

पल्लवाकुर 113 3

किस लिए

क्यों 507 9

किस विध

कैसे 514 20

किस समय

कब 36 23

किसान

कृषक 548 2

जमींदार 553 14

किसानी

कृषि 548 1

किसी

किसी 316 4 ⇨

किसी एक

कोई एक 946 21

किसी और तरह

अन्यथा 514 25

किसी और समय

भिन्न काल में 60 15

किसी का होना

प्रेमासक्त होना 368 15

किसी के आगे चलना: कर्म

पुरोगमन 1096 1

किसी के पीछे चलना: कर्म

अनुगमन 1096 2

किसी ज़माने में

सुदूर भूत में 36 32

किसी तरह

कठिनत 519 31

शियलत 1045 16

किसी दिन

अनिकट भविष्य में 36 36

किसी प्रकार

जैसे कैसे 514 22

किसी बार

एकदा 72 6

किसी भी प्रकार

जैसे कैसे 514 22

किसी समय

एकदा 72 6

कभी 36 24

सुदूर भूत में 36 32

किसी हालत में नहीं

रुभी नहीं 72 12

किसू

किसी 316 4

किसे

किसे 316 29 ⇨

क्रिस्त

क्रिस्त 634.11 ⇨

धारावाही क्रिस्त 447 15

क्रिस्त दर क्रिस्त

धारावाहितत 447 27

क्रिस्तबंदी

क्रिस्तबंदी 634.12 ⇨

क्रिस्त ब क्रिस्त

क्रिस्तवार 634 37

धारावाहितत 447 27

क्रिस्त में

धारावाहितत: 447 27

क्रिस्तवार

क्रिस्तवार 634.37 ⇨

धारावाहितत 447 27

क्रिस्तवाराना

क्रिस्तवार 634 37

धारावाही 447 26

क्रिस्तों में

क्रिस्तवार 634 37

क्रिस्म

कोटि 936 1

क्रिस्म का

कोटीय 936 7

क्रिस्मत

प्रारब्ध 260 1

क्रिस्मत आजगाइश

भाग्य परीक्षा 260 16

क्रिस्मत आजमाना

भाग्य परीक्षा करना 260.23

क्रिस्मत का धनी

सौभाग्यशाली 260.33

क्रिस्मत का फेर

दुर्भाग्य 260 18

भाग्य चक्र 260 15

क्रिस्मत का मारा

दुर्भाग्यशाली 260 34

क्रिस्मत का लिखा

प्रारब्ध लिखित 260.31

क्रिस्मत फूटना

दुर्भाग्य हुआ 260 25

क्रिस्मतवर

सौभाग्यशाली 260 33

क्रिस्मा (ईरान)

क्रैसर 882 12

क्रिस्सा

कथा कृति 450 3

घटना 75 1

घटना चक्र 75 4

पुरा कथा 450 13

प्रसंग 437 1

वृत्तान्त 449 14

क्रिस्सा कहानी

कथा कृति 450 3

गप 440 7

क्रिस्सा कोताह

साराश उक्ति सूची 449 34

साराशत: 449 33

क्रिस्साख्याँ

कथा वाचक 399.11

क्रिस्साख्यानी

कथा वाचन 399 10

क्रिस्सागो

कथाकार 448.10

कथा वाचक 399 11

क्रिस्सागोई

कथा वाचन 399 10

क्रिस्सा मुक्तसर

साराश: उक्ति सूची 449.34

कीकी

कूंकू 298 12

की (अँ)

वाद्य कुंजी 461 94

कीक

आर्तनाद 386.3

कुहुक 298 11

कीकड़

बयूल 13.15

कीकर

बयूल 13 15

कीकस

पसली 133 12

रीढ़ 133 14

कीकान

घोड़ा 127 35

कीघ

कीघड़ 214 2

दलदल 25 28

कीघक

बाँस 597 8

कीघट

तलछट 526 7

तेल तलछट 526 8

कीघड़

कीघड़ 214 2 ⇨

दलदल 25 28

नेत्र मल 215.9

कीघड़दार

कीघड़दार 214 10 ⇨

कीघड़ भरा

फिसलन युक्त 1084 47

कीघड़ में फैसना

सकट में पड़ना 909 11

कीघदार

कीघड़दार 214 10

कीघ निष्कासन

कूप स्वच्छीकरण 19 21

कीट

कीट 122 9 ⇨

कृमि 122 6

कृमि कीट 122.1

कीट कोश

कोया 242.2

कीटघ्न

कीट नाशक 170 8

कीट डिब्ब

मेटक प्रारंभिक रूप 124.3

कीट: ध्वनि बोली

कीट ध्वनि बोली 298 1 ⇨

कीट नाशक

कीट नाशक 170.8 ⇨

कीट पतंग

कृमि कीट 122 1

कीट समूह

कीट समूह 690.6 ⇨

कीट सूची

कीट सूची 122.12 ⇨

कीटसूत्र

रेशम 568.12

**कीटाणु**

रोगाणु 122.5  
सूक्ष्म कीट 122 11  
**कीटाणु नाशक**  
कीट नाशक 170 8  
रोगाणु नाशक 170 7

**कीटाणुहीन**

सुजीवितापूर्ण 170 11

**कीटादि**

कृमि कीट 122 1

**कीटिका**

छोटा कीट 122 10

**कीड़ा**

कीट 122.9  
कृमि 122 6  
कृषि कीट 549 5  
सर्प 123 10

**कीड़ा लगना**

कृषि कीट लगना 549 10

**कीड़ी**

चींटी 122 20

छोटा कीट 122 10

**कीड़ी काड़ा**

इक्कल दुक्कल 476 3

**कीड़े**

कृमि कीट 122 1

**कीड़े पड़ना**

पुयित होना 169 12

**कीड़े मकोड़े**

कुलेख उपमान सूची 412 13

कृमि कीट 122 1

**कीना**

ईर्ष्या 709 1

प्रतिशोध भावना 873 3

**कीना अंदाज़ी**

वैमनस्य 706 10

**कीनाकशी**

वैमनस्य 706 10

**कीनिया**

ईर्ष्यातु 709.6

**कीनख्खाब**

कमख्खाब 580 5

**कीमत्त**

मूल्य 664.1

**कीमत्त फुफाना**

मूल्य देना 664.22

**कीमत्त मौंगना**

मूल्य निवेदन करना 664.21

**कीमती**

बहुमूल्य 664.31

मईगा [मईगी] 664.34

**कीमती पत्थर**

रत्न 96.1

**कीमतीपन**

बहुमूल्यता 664.11

**कीमती गिरना**

मंदी होना 664.23

**कीमा**

कीमा 206.26 ⇨

**कीमा: लंगोण**

सासेज 206 31

**कीमिया**

कीमियागरी 87 6

**कीमियागर**

कीमियागर 87 7 ⇨

**कीमियागरी**

कीमियागरी 87 6 ⇨

रासायनिकी 87 4

**कीमियासाज़**

कीमियागर 87 7

**कीमुख्त**

कीमुख्त 582 8 ⇨

**कीर**

तोता 126 44

**कीरम काटा**

कुलेख 412 12

कुलेख उपमान सूची 412 13

**कीरोयाद**

अंक शास्त्र 262 5

**कीर्तन**

कीर्तन 749 30 ⇨

नवधा भक्ति सूची 752 6

पूजा गीत सूची 749 26

प्रशंसन 841 4

प्रशंसा गायन 841 10

प्रशंसा गीत 841.6

वर्णन 449 1

**कीर्तन करना**

कीर्तन करना 749 46 ⇨

**कीर्तन कर्ता**

कीर्तनकार 749 31

**कीर्तनकार**

कीर्तनकार 749 31 ⇨

प्रशंसा गायक 841 11

**कीर्तनिया**

कीर्तनकार 749 31

**कीर्ति**

कीर्ति 774.25 ⇨

ख्याति 847 1

**कीर्ति गाथा**

प्रशंसा गाथा 841 7

वीर काव्य 451 14

**कीर्ति गान**

स्तोत्र 741.16

**कीर्ति गायन**

प्रशंसा गायन 841.10

**कीर्ति गीत**

प्रशंसा गीत 841 6

स्तोत्र 741.16

**कीर्तित**

ख्यात 847 3

प्रशंसित 841.29

**कीर्ति पत्र**

प्रशंसा पत्र 841 9

**कीर्तिमान**

कीर्तिमान 512 2 ⇨

**कीर्तिमान स्थापित करना**

कीर्तिमान स्थापित करना 512 4 ⇨

**कीर्ति लेख**

प्रशंसा आलेख 841 5

**कीर्ति वर्णन**

प्रशंसन 841 4

**कीर्तिशाली**

ख्यात 847 3

**कीर्तिस्व**

कीर्तिस्व 621.9 ⇨

**कीर्तिहीन**

अख्यात 848 5

**कीर्तिहीनता**

अख्याति 848 2

**कील**

अक्षाय कील 1077 14

आभूषण पेष 1016 21

कील 1016 8 ⇨

कीला 144 6

घड़ी सूई 50 27

घर्मकील 165 7

घाक कील 559 16

प्रालबन सूची 1024 5

भाला 925 4

मुँहारा 165 12

लौंग 228 24

लौह स्तभ 255 14

शूल 925 8

स्मारक स्तभ 255 13

**कील (अँ)**

पो. रीड 1073 37

**कील उखड़ाई**

उत्कीलन 1017 4

**कीलक**

अक्ष 1077 11

अक्ष दड 1077 12

कील 1016 8

खूँ 455 11

पृथ्वी अक्ष 10 9

रियट 1016 18

**कीलकौटे**

कुलेख उपमान सूची 412 13

**कील गड़ाई**

कील गड़ाई 1016 5 ⇨

**कील जमाना**

कील लगाना 1016 39

**कील गुँकाई**

कील गड़ाई 1016.5

**कील ठोंकना**

कील लगाना 1016.39

**कीलन**

कील गड़ाई 1016.5

वशीकरण 758 22

स्तंभन 758 29

**कीलना**

कील लगाना 1016 39

मत्र काटना 758 34

स्तंभन करना 758 37

**कील लगार्ई**

कील गड़ाई 1016 5

**कील लगाना**

कील लगाना 1016 39 ⇨

**कील लिपि**

कील लिपि 409 12 ⇨

**कीला**

कीला 144.6 ⇨

चक्की धुरी 560 14

घर्मकील 165 7

घाक कील 559 16

बड़ी कील 1016 10

मुँहासा 165 12

सूली यत्र 871 16

**कीलाकार**

त्रिभुजाकार 969 13

**कीलाल**

मधु 280 9

रुधिर 131 1

**कीलालज**

मास 132 1

**कीलालप**

असुर दानय दैत्य राक्षस 783 2

पिशाच 786 8

**कीलिका**

झाड़ग पिन 417 8

**कीलित**

गहन प्रभावित 511 15

स्तंभन कृत 758 42

**कीलिया**

घरसा घालक 19 23

**कीली**

अक्ष 1077 11

अक्ष दड 1077 12

अक्षाय कील 1077 14

कटा डंठल खूँटी 114 2

कीली 1016.15 ⇨

चक्की धुरी 560 14

चप्पू कुडा 1073.7

घाक कील 559 16

घूल 609.15

दियतुल 1077 17

सूली यत्र 871 16

**कीवी (अँ)**

उड़ानहीन पक्षी सूची 126.5

**कीरा**

बंदर 127.86

**कुँअर**

अविवाहित पुरुष उपाधि सूची 856.3

कुमार 234 16

पुत्र 718.3

राजकुमार 882 20

लड़का 230.25

**कुँअरि**

कुमारी 234.17

राजकुमारी 882.21

## कुँअरी

लड़की 230 26

### कुँअरी

अविवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.5

### कुँअरेटा [कुँअरेटी]

शिशु 230 3

### कुँआ

कूप 19 3

खत्ती 670 12

### कुँआरा

अविवाहित 234 13

### कुँआरापन

कौमार्य 234 11

### कुँआरी

अविवाहिता 234 14

कुमारी 234 17

लड़की 230 26

### कुँकुम

कुमकुम 225 16

### कुँघक

सकुघन कारी 980 27

### कुँघन

खिघन 392 9

मरोड़न 975 12

संकुघन 980 9

सिकुड़न 980 10

### कुँघनकारी

सकुघन कारी 980 27

### कुँघना

घुभना 270 11

संकुघित होना 980 15

### कुँघा [कुँघी]

रूँदा [रूँदी] 541 13

संकुघित 980 26

### कुँघाय

सकुघन 980 9

### कुँघित

घुँघराला 137 25

मरोड़ा [मरोड़ी] 975 30

वक्र 974 16

सकीर्ण 980 29

संकुघित 980 26

### कुँघित केश

घुँघराले केश 137 13

### कुँघितता

वक्रता 974 1

### कुँज

कुज गली 1063 20

कोना 607 6

निघला जबड़ा 140 19

बूटा तुरज 578 17

वृक्ष कुंज 12 18

### कुँज कुटी

लता कुंज 12 19

### कुँज कुटीर

लता कुंज 12 19

वृक्ष कुंज 12 18

### कुँज गली

कुंज गली 1063 20 ⇨

वृक्ष कुंज 12 18

### कुँजड़ा [कुँजड़न]

सम्बी विक्रेता 663 16

### कुँज बिहारी

कृष्ण 771 1

### कुँजर

उत्तमता उपमान सूची 313 4

उदती (जतु) 144 19

यानर सूची 781 7

हाथी 127 38

### कुँजर गति

गजगामिता 1084 4

### कुँजरः पुत्री

अंजना 781 20

### कुँजर मणि

हस्ति मणि 96 21

### कुँजरा

मादा हाथी 127 39

### कुँजरारि

सिंह 127 50

### कुँजरारान

पीपल 13 14

### कुँजरी

मादा हाथी 127 39

### कुँजित

सपुंजित 288 10

### कुँजी

इडेक्स 993 8

गाइड 427 7

गुर 517.4

चाबी 609 26

भाष्य 427 11

वाघ कुंजी 461 94

वाघ परदा 461 99

सूची 993 1

स्पेनर 559 38

### कुँठ

अबलिष्ठ 159 12

यज्ञधी 302 9

स्फूर्तिहीन 492 14

### कुँठन

स्तंभन 758 29

### कुँठा

कुंठा ग्रंथि 352 6

मनोबाधा 354.2

### कुँठा ग्रंथि

कुँठा ग्रंथि 352 6 ⇨

### कुँठा मोघन

कुँठा मोघन 352 12 ⇨

### कुँठित

कुँठित 270.24 ⇨

क्षमताहीन 488 15

### कुँठित करना

कुँठित करना 270 16 ⇨

### कुँठितता

कुँठितता 270 10 ⇨

### कुँड

अग्नि पात्र 109 1

कमडलु 642 13

कुँड 679 22 ⇨

### कुँड

कूँड 679 23

छोटा तालाब 18 11

टब 679 30

बड़ा मुँह घड़ा 679 4

भड़भूँजा कड़ाह 682.6

यज्ञ वेदी 753 24

लौह शिर कवच 921 6

वियाह वेदी 802 30

होज 18 14

### कुँडक

बड़ा मुँह घड़ा 679.4

बरतन 680 1

कड़ा 228 6

कर्ण कुँडल 228 9

कुँडली 973 8

केश घुँघर 137 6

कुँडल अधोधकृण

अधोधकृण 1033 9

### कुँडलाकार

चक्रिल 973.10

### कुँडलाकारता

चक्रिलता 973 1

### कुँडलाकार नीहारिका

कुँडलाकार नीहारिका 1.12 ⇨

### कुँडलिका

कुँडलिया 452.11

### कुँडलित

चक्रिल 973 10

### कुँडलितता

चक्रिलता 973 1

### कुँडलिनी

कुँडलिनी 757.1 ⇨

कुँडलिया 452 11

कुँडली 973 8

### कुँडलिनी शक्ति

कुँडलिनी 757 1

### कुँडलिनी संस्थानः षट्चक्र

षट्चक्र 757 7

### कुँडलिया

कुँडलिया 452.11 ⇨

### कुँडली

कुँडलिनी 757 1

कुँडली 973.8 ⇨

जन्म कुँडली 261 7

जलेबी 203.13

वरुण 773 43

विष्णु 768.1

शिव 767 1

सर्प 123.10

सर्प कुँडली 973.9

### कुँडलीदार

चक्रिल 973 10

### कुँडलीः स्थान

जन्म कुँडलीः स्थान 281.8

### कुँडली स्त्रिय

कुँडली स्त्रिय 1050.21 ⇨

### कुँडा

कुँडा 1016.28 ⇨

घप्पू कुँडा 1073 7

जलकुँड 679 39

टब 679 30

दुर्गा 776.7

नौद 679 36

प्रातंबन सूची 1024 5

### कुँडा

बड़ा मुँह घड़ा 679 4

### कुँडा

बरतन. हत्था 680 29

भँवर कुँडा 1077.19

### कुँत

भाला 925.4

### कुँतल

कटोरा 683 1

केश 137 1

केश घुँघर 137 6

घुँघराला 137 25

प्याला 684.12

भाला 925 4

सूत्रधार 468.13

### कुँतलयाही

भालाधारी 930 16

### कुँतल सोपान

गोल ज़ीना 613 2

### कुँतलित

घुँघराला 137 25

### कुँता

कुंती 771 49

### कुँतिभोजः दत्तक पुत्री

कुंती 771 49

### कुँती

कुंती 771.49 ⇨

घोड़ 13 7

छोटा भाला 925.5

पंचकन्या सूची 774 18

पांडु पत्नी सूची 771 72

### कुँती दाना

सागुदाना 192 19

### कुँतीः पूर्व जन्म

सिद्धि (धर्म पत्नी) 774 99

### कुँधुनाथ

तीर्थकर सूची 792.2

### कुँव

कनेर 14.3

कमल 14.4

कुँठित 270.24

कुँबेरः नवनिधि सूची 779.12

खराद 559.13

नौ 948.33

नौः उपमान सूची 948.34

वज्रधी 302.9



**कुंदकार**  
खराद कर्मी 564 4

**कुंदता**  
कुठिता 270 10

**कुंदन**  
शुद्ध स्वर्ण 95 5  
स्वर्ण 95 4

**कुंदनसाज**  
कुंदनसाज 566 4 ⇨

**कुंदरू**  
साग सब्जी सूची 189 4

**कुंदा**  
काष्ठ बेड़ी 864 26  
कुंदा 597.3 ⇨  
बदरू हत्था 596 28

**कुंदी**  
इस्तिरी कर्म 220 18

**कुंदी करना**  
पिटोई करना 918 23

**कुंदीगर**  
इस्तिरी कर्मी 220 19

**कुंदुर**  
गधा बिरोजा 1012 10

**कुंदुरु**  
गधा बिरोजा 1012 10

**कुंदेरना**  
खरादना 564 10  
खुरघना 542 15

**कुंदेरा**  
खराद कर्मी 564 4

**कुंभ**  
कनपटी 140 14  
कुंभ उत्सव 57 3  
कुंभ स्नान 221 11  
घड़ा 679 1  
धातु घट 679 6  
मद्य कुंभ 209 37  
राग रागिनी सूची 457 24

**कुंभ उत्सव**  
कुंभ उत्सव 57.3 ⇨

**कुंभकर्ण**  
कुंभकर्ण 784 6 ⇨  
राक्षस सूची 784 4  
रावण. भाई सूची 784 15

**कुंभकर्ण (पुनर्जन्म)**  
हिरण्यक्ष 769 35

**कुंभकर्णी**  
कुंभकर्णी 774.26 ⇨

**कुंभ कर्म**  
कुंभ कर्म 680.33 ⇨

**कुंभकार**  
ईश्वर 784 1  
कुंभकार 680 34 ⇨

**कुंभकारिता**  
कुंभ कर्म 680 33

**कुंभज**  
द्रोणाचार्य 771.63

**कुंभदासी**  
कुटनी 807 11

**कुंभनाभ**  
दानव सूची 783.13

**कुंभ मेला**  
कुंभ उत्सव 57 3

**कुंभ राशि**  
राशि सूची 4 8

**कुंभरेता**  
अग्नि 106 1

**कुंभ स्थल**  
तीर्थ स्थान 1089 10

**कुंभ स्थान**  
कुम्हरहा 680 35

**कुंभ स्नान**  
कुंभ स्नान 221 11 ⇨

**कुंभा**  
वेश्या 807 5

**कुंभिका**  
छोटा घड़ा 679 2

**कुंभिनी**  
पृथ्वी 9 1

**कुंभिल**  
असुर सूची 783 8  
सेधमार 864.17

**कुंभी**  
गुग्गुल 274 18  
घड़ियाल 123 5  
चीड़ 13 7  
छोटा घड़ा 679 2  
हँडिया 679 21  
हाथी 127 38

**कुंभीनसी**  
राक्षस स्त्री सूची 784 23

**कुंभीपाक**  
नरक सूची 259 7

**कुंभी बीज**  
जमालगोटा 216 9

**कुंभील**  
घड़ियाल 123 5

**कुंभर**  
अविवाहित पुरुष 236 17  
अविवाहित पुरुष उपाधि सूची 856.3  
पुत्र 718.3  
बड़ा पुत्र 718 8  
राजकुमार 882 20  
लडका 230 25

**कुंभर [कुंभरानी]**  
रज [रत्न] फन्नाम (बन्ना) सूची 882 10

**कुंभरी**  
अविवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.5  
लडकी 230 26

**कुंभारा**  
अविवाहित 234 13

**कुंभारी**  
अविवाहिता 234.14

**कुंसी**  
हलः फाल 563.12

**कु.**  
अविवाहित स्त्री उपाधि सूची 856 5

**कु-**  
बुरा उपसर्ग सूची 314 11

**कु. (बीज रूप)**  
अविवाहित पुरुष उपाधि सूची 856 3

**कुअवसर**  
अनुपयुक्त अवसर 70 4

**कुआँ**  
कूप 19 3

**कुआँ खुदाई**  
कूप उत्खनन 19 19

**कुआँ: चबूतरा**  
कुआँ चबूतरा 610 11 ⇨

**कुआँ सफ़ाई**  
कूप स्वच्छीकरण 19 21

**कुआँ: सौता**  
कूप उत्खनन 21 3

**कुआर**  
आश्विन 43 13

**कुइयी**  
छोटा कूप 19 4

**कुई**  
कुमुद 14 9

**कुएँ मे गिरना**  
राकट मे पड़ना 909 11

**कुक (अँ)**  
रसोईदार 195 7

**कुकड़ना**  
ठिपुरना 105 18  
सिकुड़ना 980 17

**कुकड़ी**  
युखड़ी 575 4  
भुट्टा 116 4  
मुरगी 126 64

**कुकड़ू कूँ**  
कुकड़ू कूँ 298.10 ⇨

**कुकर (अँ)**  
पाक भांड सूची 682 2  
प्रेशर कुकर 682.19

**कुकरी**  
पनकुकरी 126 47  
मुरगी 126.64

**कुकरी (अँ)**  
पाक कला 195 3

**कुकरीछी**  
डॉस 122 27

**कुकर्मिणी**  
दुश्परित्रा 811 6

**कुकर्मी**  
दुर्जन 818.5  
दुश्परित्र 811 5

**कुकिंग पीट (अँ)**  
पाक भांड 682 1

**कुकिंग रेंज**  
कुकिंग रेंज 109 18 ⇨

**कुकिंग रेंज (अँ)**  
कुकिंग रेंज 109 18

**कुकीर्ति**  
कुख्याति 848 1

**कुकुंदर**  
कूल्हा गड़दा 148 12

**कुकुरमाछी**  
डॉस 122.27

**कुकुरमुत्ता**  
कुकुरमुत्ता 189.13 ⇨  
साग सब्जी सूची 189 4

**कुकुराँछी**  
डॉस 122 27

**कुकृत**  
कुविन्यस्त 527 24

**कुकृत्य**  
दुष्कर्म 812 6

**कुकटटी**  
पनकुकरी 126 47

**कुक्कुट**  
नर मुरगी 126 65

**कुक्कुट कृषि**  
मुरगी पालन 555 3

**कुक्कुटरेक**  
मुरगी शिशु 230 10

**कुक्कुटी**  
मुरगी 126 64

**कुक्कुर**  
कुत्ता 127 71

**कुक्कू**  
घातक 126 39

**कुक्कू (अँ)**  
गायक पक्षी सूची 126 9

**कुक्ष**  
पेट 148 1

**कुक्षि**  
खाड़ी 24 5  
पेट 148 1  
बलि 769 37

**कुक्षीय**  
पार्श्व भागीय 997 19

**कुख्यात**  
कुख्यात 848.4 ⇨

**कुख्याति**  
कुख्याति 848 1 ⇨

**कुख्याति होना**  
कुख्याति होना 848.3 ⇨

**कुगठित**  
कुडील 155 5

**कुगड**  
कलाहीन 403 4

**कुघड़ी**  
अमंगल काल 797 3

**कुघात**  
अनुपयुक्त स्थान 70.6  
घात प्रतीक्षा 914.1  
छल 827.7  
विश्वासघात 827.4

**कुच**  
स्तन 146.6

## कुचकुचवा

स्त्री स्तन 146 7  
**कुचकुचवा**  
उल्लू 126 14  
**कुचकुचा [कुचकुची]**  
पिचपिचा [पिचपिची] 197 38  
**कुचकुचाना**  
हलका रौदना 541 9  
**कुचक्र**  
षडधत्र 827 8  
**कुचकी**  
षडधत्र कर्ता 827 25  
**कुचन**  
खिचन 392 9  
**कुचना**  
चुभना 270 11  
**कुचमुख**  
स्तनाग्र 146 9  
**कुचर**  
रेगने वाला 1084 48  
**कुचलना**  
दरदराना 540 12  
रौदना 541 8  
**कुचला [कुचली]**  
रूँदा [रूँदी] 541 13  
**कुचलाई**  
रौदाई 541 4  
**कुचवती**  
स्तनवती 146 15  
**कुचहीना**  
स्तनहीना 146 16  
**कुचा [कुची]**  
रूँदा [रूँदी] 541 13  
**कुचाग्र**  
स्तनाग्र 146 9  
**कुचाल**  
कूट युक्ति 819 8  
दुर्जनता 818 1  
**कुचाली**  
दुर्जन 818 5  
**कुचीपुत्री**  
भारतीय शास्त्रीय नृत्य सूची 462 7  
**कुचेता**  
अकल्याण कामी 711 11  
**कुच**  
अनेक 940 10  
अल्प 942 13  
**कुच 316 6** ⇨  
महत्त्वपूर्ण 852 8  
महान कार्य 506 6  
मात्रा मे अनियत 946 18  
**कुच एक**  
अल्प 942 13  
**कुच कर देना**  
टोना करना 759 16  
**कुच कुच**  
अल्पतः 942 23  
क्रिस्तवार 634 37  
सादृश्याभासित 309 21

**कुच कुच वैसा**  
सादृश्याभासित 309 21  
**कुच ठीक नहीं**  
अपूर्ण सभावना उक्ति सूची 68 22  
**कुच न करना**  
प्रयत्न न करना 490 6  
**कुच न चलना**  
वश न होना 900 6  
**कुच न मिलना**  
प्रतिफल न मिलना 510 9  
**कुच न लगना**  
संबधित न होना 715 8  
**कुच न समझना**  
नगण्य समझना 853 7  
**कुच न होना**  
नगण्य होना 853 6  
महत्त्व न होना 853 5  
**कुच पहले**  
निकट भूत काल मे 36 31  
**कुच हाथ न लगना**  
प्रतिफल न मिलना 510 9  
लाभ न होना 649 7  
**कुच ही दिनों में**  
निकट भविष्य मे 36 35  
**कुच होना**  
गतिविधि होना 502 6  
**कुछाया**  
कुछाया 711 4 ⇨  
**कुजंत्र**  
टोना टोटका 759 1  
**कुजंभल**  
सेधमार 864 17  
**कुज**  
मगल ग्रह 7 7  
**कुजनी**  
फुदकी 126 53  
**कुजा**  
पार्यती 776 9  
सीता 770 66  
**कुज्जा**  
कुल्हड़ 684 7  
कूजा 679 13  
मिट्टी दवात 416.27  
मिसरी कूजा 280.20  
**कुज्जी**  
गँजिया 684 8  
**कुज्जटिका**  
कोहरा 90 10  
**कुज्ञान**  
विपरीत ज्ञान 306 4  
विषय वासना रूपी अज्ञान 761.2  
**कुटक**  
टब 1076.14  
**कुटंत**  
पिट्टाई 918 9  
**कुट**  
कुट 938.8 ⇨  
यूक्ष 111.18

हथौड़ा 559 39  
**कुटक**  
अत्यल्प 942 16  
हल फाल 563 12  
**कुटक भर**  
अत्यल्पत 942 24  
**कुटका**  
तिकोना बूटा 578 16  
**कुटकी**  
किलनी 122 16  
कीट सूची 122 12  
**कुटज**  
अनाज सूची 187 6  
द्रोणाचार्य 771 63  
**कुटनपना**  
चुगलखोरी 843 11  
**कुटनहार [कुटनहारी]**  
कुटाई कर्ता 540 17  
**कुटनहारा [कुटनहारिन]**  
कुटाई कर्ता 540 17  
**कुटना**  
कुटना 807 10 ⇨  
चेट 467 15  
वित 467 18  
**कुटना [कुटनी]**  
चुगलखोर 843 26  
**कुटनापन**  
कलहकारिता 708 2  
**कुटनापा**  
कलहकारिता 708.2  
**कुटनी**  
कुटनी 807.11 ⇨  
दूती 467 16  
**कुटम**  
सार्थ 657 13  
**कुटा [कुटी]**  
कुटा [कुटी] 986.10 ⇨  
कुटा [कुटी] 540.16 ⇨  
**कुटाई**  
कुटाई 220.12 ⇨  
कुटाई 540.2 ⇨  
कुटाई 986.6 ⇨  
दैंयरी 548.21  
पिट्टाई 918.9  
**कुटाई करना**  
कुटाई करना 986.7 ⇨  
**कुटाई कर्ता**  
कुटाई कर्ता 540.17 ⇨  
**कुटाई ठीहा**  
कुटाई ठीहा 596.13 ⇨  
**कुटा खंड**  
कुट 938 8  
**कुटि**  
अवनमन 1025.3  
**कुटिया**  
आश्रम 745 2  
कुटी 602.1  
छोटा भवन 602.9

वक्ता गृह 601 2  
**कुटिल**  
अवनमित 1025 8  
कुटिल 818 7 ⇨  
छली 827 24  
दुर्जन 818 5  
वक्र 974 16  
सपिल 974 19  
**कुटिल उक्ति**  
कुटिल भाषण 432.5  
**कुटिलता**  
कुटिलता 818 3 ⇨  
वक्रता 974 1  
सपिलता 974 5  
**कुटिलधी**  
दुर्जन 818 5  
**कुटिल भाषण**  
कुटिल भाषण 432 5 ⇨  
**कुटिल भाषण करना**  
कुटिल भाषण करना 432.9 ⇨  
**कुटिलभाषी**  
कुटिलभाषी 432 13 ⇨  
**कुटिल युक्ति**  
कूट युक्ति 819 8  
**कुटिलिका**  
लुहारी भट्टी 109 13  
**कुटी**  
अवनमन 1025 3  
कुटी 602.1 ⇨  
छप्पर 615 1  
दलवाई छत 611 18  
मुरा 274 24  
मोड़ 974 10  
वक्ता गृह 601.2  
साधु सत आश्रम 745 5  
**कुटी मिर्ष**  
मिर्ष पूर्ण 278 9  
**कुटीर**  
कुटी 602 1  
**कुटी सड़क**  
कुटी सड़क 1063 42 ⇨  
**कुटुंब**  
ऋषीला 729.11  
कुटुंब 726.7 ⇨  
जाति 730.1  
नृजाति 730.14  
संतान समष्टि 718.2  
सयुक्त परिवार 726.6  
समूह 690 1  
सार्थ 657 13  
स्वजन 725 1  
**कुटुंबक**  
कुटुंब 726.7  
**कुटुंब ऋषीला**  
ऋषीला 729.11  
स्वजन 725.1  
**कुटुंब कसह**  
कुटुंब युद्ध 905.15

**कुटुंब जन**  
परिवार जन 726 9  
स्वजन 725.1  
**कुटुंब भावना**  
स्वजन भावना 725 2  
**कुटुंबयुक्त**  
परिवारयुक्त 726.14  
**कुटुंबयुक्तता**  
परिवारयुक्तता 726 3  
**कुटुंब युद्ध**  
कुटुंब युद्ध 905 15 ⇨  
**कुटुंब बाला**  
परिवारयुक्त 726 14  
**कुटुंबहीन**  
परिवारहीन 726 15  
**कुटुंबहीनता**  
परिवारहीनता 726 4  
**कुटुंबिक**  
पत्नीपुत्रवान पुरुष 236 18  
**कुटुंबिनी**  
गृहस्थिन 235 4  
पतिपुत्रवती स्त्री 236 9  
**कुटुंबी**  
गृहपति 235 5  
पत्नीपुत्रवान पुरुष 236 18  
परिवार जन 726 9  
रिशतेदार 715 6  
स्वजन 725 1  
**कुटुंबीय**  
कुटुंबीय 726.16 ⇨  
**कुटुंब कबीला**  
सतान समष्टि 718 2  
**कुटेक**  
दुराग्रह 349 2  
**कुटेब**  
कुव्यसन 812 7  
**कुटेवहीन**  
व्यसनहीन 813 14  
**कुटेथी**  
कुव्यसनी 812 16  
मदासक्त 211.14  
**कुट्टा**  
घारा पक्षी 252.7  
**कुट्टित**  
कुटा [कुटी] 540 16  
**कुट्टिम**  
कुटा [कुटी] 540 16  
कुटा [कुटी] 986 10  
**कुट्टी**  
कुट्टी 556.5 ⇨  
नित्रता विस्थापना 705.16  
**कुट्टी ठीहा**  
कुटाई ठीहा 596.13  
**कुट्टीर**  
छोटा पर्वत 18.5  
**कुट्टक**  
बीज गणित 953.4

**कुट्टक गणित**  
बीज गणित 953.4  
**कुठ**  
वृक्ष 111 18  
**कुठर**  
मथन दंड 554 14  
**कुठरिया**  
कुठला 670 9  
**कुठला**  
कुठला 670.9 ⇨  
मिट्टी बरतन 680 8  
**कुठौय**  
अनुपयुक्त अवसर 70 4  
अनुपयुक्त स्थान 70 6  
**कुठाट**  
षडयत्र 827 8  
**कुठाथ**  
अनुपयुक्त स्थान 70 6  
**कुठार**  
अनाज गोदाम 670 18  
कुल्हाड़ा 559 9  
परशु 924 14  
फायड़ा 559 24  
**कुठारपाणि**  
परशुराम अवतार 769 28  
**कुठारी**  
कुल्हाड़ी 559 10  
कोठरी 614 3  
भंडार अध्यक्ष 670 6  
**कुठारु**  
वृक्ष 111 18  
शास्त्र निर्माता 929.9  
**कुठाली**  
सगलन पात्र भूयी 565 17  
**कुठि**  
वृक्ष 111.18  
**कुठियार**  
अनाज गोदाम 670 18  
कोठरी 670 10  
भंडार घर 670 5  
**कुठिला**  
अनाज गोदाम 670 18  
**कुठौर**  
अनुपयुक्त अवसर 70.4  
अनुपयुक्त स्थान 70 6  
**कुठ**  
हल अंकुषी 583 9  
**कुठक करना**  
कुठकी करना 635 11  
**कुठकी**  
कुठकी 635.5  
**कुठकुकी**  
गुरुगुवाहट 297.12  
**कुठनाई**  
वाग्दान 800.47  
**कुठरी**  
ईशुरी 584.2

**कुठ्राई**  
गुडाई 548 30  
**कुठुक**  
लक्ष्य च्युत 931 23  
**कुठुक बोलना**  
लक्ष्य च्युत होना 931 19  
**कुठील**  
कुठील 155 5 ⇨  
**कुठीलता**  
कुठीलता 155.3 ⇨  
**कुठंगा [कुठंगी]**  
असभ्य 734 14  
**कुठंगापन**  
असभ्यता 734 1  
**कुठन**  
ईर्ष्या 709 1  
खीज 373 4  
**कुठना**  
ईर्ष्या होना 709 3  
खीजना 373 18  
**कुठा [कुठी]**  
खीजा [खीजी] 373 31  
**कुतक**  
गतका 923 2  
**कुतका**  
गतका 923 2  
धातु मेंढी लाठी 923 10  
हाथ अंगूठा 150 15  
**कुतप**  
कुश घास 11 8  
द्विज 731 7  
**कुतरन**  
कुतरन 181 12 ⇨  
कुतरन 938 9 ⇨  
**कुतरना**  
कुतरना 181 36 ⇨  
**कुतरने वाला**  
कुतरने वाला 181 56 ⇨  
**कुतरा**  
छोटा प्रास 181 27  
**कुतराई**  
कुतराई 543 10 ⇨  
**कुतरा टुकड़ा**  
कुतरन 938 9  
**कुतर्क**  
कुतर्क 325.3 ⇨  
**कुतर्क करना**  
कुतर्क करना 325.19 ⇨  
**कुतर्की**  
वितंडावादी 324.27  
**कुतवार**  
आकलन कर्ता 947.22  
**कुताई**  
आकलन कर्म 947.6  
**कुतिवा**  
मादा कुता 127 72  
**कुतुप**  
कुप्पा 878.7

मराक 679 38  
**कुतुबनुमा**  
कुतुबनुमा 29 20 ⇨  
**कुतुबनुमा**  
कुतुबनुमा 29 20  
**कुतुब झरोहा**  
पुस्तक विक्रेता 420 6  
**कुतुहलजनक**  
जिज्ञासाजनक 305 43  
**कुतु**  
मराक 679 38  
**कुतुहल**  
आश्चर्य 379 1  
जिज्ञासा 305 22  
**कुतुहलजनक**  
विलक्षण 312 16  
**कुतुहलपूर्ण**  
आश्चर्यजनक 379 9  
**कुतुहलहीन**  
जिज्ञासाहीन 306 19  
**कुतुहली**  
क्रीड़ाप्रिय 469 16  
जिज्ञासु 305 45  
**कुतप (नाट्य शास्त्र)**  
वाद्ययंत्र 461 11  
**कुत्ता**  
कुत्ता 127 71 ⇨  
खटका 609 19  
बदक घोड़ा 927 7  
**कुत्ता: काटा**  
कुत्ता काटा 918 11 ⇨  
**कुत्ता: बोली**  
भीक 298 24  
**कुत्ता: शिशु**  
कुत्ता शिशु 230 13 ⇨  
**कुत्ती**  
मादा कुत्ता 127 72  
**कुत्थ**  
पृथ्वी ध्रुव 10 10  
**कुत्सा**  
निंदा 843 1  
**कुत्सित**  
अधम 840 4  
धृषिता 370 6  
दुर्जन 818.5  
दुरधरित्र 811 5  
निंदित 843 20  
निकृष्टतम 314 7  
**कुत्सितता**  
दुर्जनता 818.1  
दुरधरित्रता 811.1  
**कुथ**  
कुश घास 11 8  
दरी 593.51  
**कुथोबरी**  
राक्षस स्त्री लुची 784.23  
**कुवक**  
उत्सल कुव 1086.1

कुदकता फुदकता  
 कूद घाल 484 12  
 कुदकता फुदकता  
 उछलता कूदता 1086 20  
 कुदकती घाल  
 कूद घाल 484 12  
 कुदकना  
 टिप्पा खाना 1052 17  
 कुदकना कुदकना  
 उछलना कूदना 1086 16  
 कुदक कुदक  
 उछल कूद 1086 1  
 कुदकी  
 कूद 1086 3  
 कुदकी भरना  
 कूदना 1086 17  
 कुदककड  
 उछल कूद कर्ता 1086 21  
 क्रीडाप्रिय 469 16  
 कुदककरी  
 उछल कूद 1086 1  
 कुदकका  
 उछल कूद 1086 1  
 कुदरत  
 प्रकृति 762 1  
 ब्रह्मांड 1 1  
 कुदरती  
 प्राकृतिक 762 10  
 स्वाभाविक 836 11  
 कुदरशन  
 कुरूप 156 4  
 कुदरशनता  
 कुरूपता 156 2  
 कुदीय  
 छल 827 7  
 विश्वासघात 827 4  
 कुदाक  
 कूदने वाला 1086 22  
 कुदान  
 कूद 1086 3  
 कुदारी  
 कुदाल 559 7  
 कुदाल  
 कुदाल 559 7 ⇨  
 कुदास  
 कुदास 1073 26 ⇨  
 कुदिन  
 दुर्भाग्य 260 18  
 मेघाच्छत्रता 55 7  
 कुदुरत  
 प्रतिशोध भावना 873 3  
 कुदुरय  
 कुदुरय 282 21 ⇨  
 कुदुरयता  
 कुदुरयता 282 11 ⇨  
 कुदृष्टि  
 नजर 711.5  
 कुदृष्टिपूर्ण  
 नजर लगाने वाला 711 13

कुदृष्टि वारक  
 नजर उतारू 710 28  
 कुदृष्टि वारण  
 नजर उतराई 710.10  
 कुदृष्टि वारना  
 नजर उतारना 710 18  
 कुदेव  
 असुर 783 6  
 कुदेयता  
 दैत्य 783 17  
 कुद्वंक  
 घटाघर 50 26  
 कुद्वसी  
 देवदूत 782 1  
 कुधर्म  
 कुधर्म 735.3 ⇨  
 कुनकुना [कुनकनी]  
 अल्प उष्ण 104 21  
 कुनबा  
 कुटुब 726 7  
 परिवार जन 726 9  
 कुनबे वाले  
 स्वजन 725 1  
 कुनमुनाता [कुनमुनाती]  
 कुलबुलाता [कुलबुलाती] 392 23  
 कुनमुनाना  
 कुलबुलाना 392 17  
 कुनमुनाहट  
 कुलबुलाहट 392 2  
 कुनाई  
 खराद कर्म 564 3  
 कुनाल  
 घना घिरई 126 38  
 कुनेरा  
 आकलन कर्ता 947 22  
 खराद कर्मी 564 4  
 कुन्यत (अरबी)  
 वश नाम 315 7  
 कुन्याय  
 न्यायहीनता 874.3  
 कुपंध  
 दुरधरित्रता 811.1  
 कुपंधी  
 दुरधरित्र 811 5  
 कुपक  
 गायक पक्षी 126.8  
 कुपक  
 कुशिक्षित 321 44  
 निरक्षर 320 5  
 कुपकता  
 निरक्षरता 320 2  
 कुपकथ  
 अघलनीय मार्ग 1063 3  
 कुपकथ्य  
 अनाहार्य 197.23  
 कुपथ्याहार 182.8  
 स्वास्थ्यहार 182 6

कुपथ्याहार  
 कुपथ्याहार 182 8 ⇨  
 कुपरामर्श  
 कुपरामर्श 332 2 ⇨  
 कुपरिपथित  
 कुपरिपथित 195.68 ⇨  
 कुपाध्य  
 कुपाध्य 178 7 ⇨  
 कुपाठ  
 कुपरामर्श 332 2  
 बुरी सीख 332 8  
 कुपात्र  
 अपात्र 304 7  
 कुपात्रता  
 अपात्रता 304 2  
 कुपित  
 कुद 373 28  
 कुपित [कुपिता]  
 रुष्ट 374.17  
 कुपुत्र  
 कपूत 718 4  
 कुपोषण  
 कुपोषण 179.4 ⇨  
 कुपोषित  
 कुपोषित 179.24 ⇨  
 कुप्ता  
 मानयती 874 18  
 कुप्पक  
 प्युपा 242 4  
 कुप्पा  
 कुप्पा 678 7 ⇨  
 फूला [फूली] 988 13  
 कुप्पा होना  
 अभिमानित होना 858 7  
 फूलना 988 8  
 कुप्पी  
 कुप्पी 678.9 ⇨  
 घिरनी 1077.39  
 कुप्रथा उन्मूलन  
 कुप्रथा उन्मूलन 795.11 ⇨  
 कुप्रबंध  
 अव्ययस्थितता 894 5  
 कुप्रबंध 655.8 ⇨  
 कुप्रबंधित  
 अव्ययस्थित 894 9  
 कुप्रयोग  
 दुरुपयोग 524.4  
 कुप्रसिद्ध  
 कुख्यात 848 4  
 कुप्रसिद्धि  
 कुख्याति 848.1  
 कुफ  
 कृतघ्नता 833.4  
 दुराग्रह 349.2  
 नास्तिकतावाद 760.14  
 कुबंड  
 विकलांग 153.15

कुबजा  
 कुब्जा 771 50  
 - मंधरा 770 44  
 कुबका [कुबकी]  
 कुबडा [कुबडी] 153 23 ⇨  
 कुबकापन  
 कुबडापन 153.6 ⇨  
 कुबकी  
 कुब्जा 771 50  
 कुबरी  
 कुब्जा 771 50  
 मंधरा 770 44  
 कुबुद्धि  
 कुस्वभावी 838.8  
 कुबेर  
 कुबेर 779.4 ⇨  
 कुबेर ग्रह 7 13  
 यक्ष सूची 779 3  
 लोकपाल सूची 780 7  
 सौर मंडल. ग्रह सूची 7 4  
 कुबेर: उपवन  
 कुबेर उपवन 779 9 ⇨  
 कुबेर का कोश  
 विशाल धनकोश 630 2  
 कुबेर: कोष  
 कुबेर कोष 779 10 ⇨  
 कुबेर कोष रक्षक  
 गुह्यक 778 11  
 यक्ष 779 1  
 कुबेर ग्रह  
 कुबेर ग्रह 7 13 ⇨  
 कुबेर दूत  
 किन्नर 778 1  
 कुबेर: नगर अलकापुरी  
 कुबेर नगर अलकापुरी 779.8 ⇨  
 कुबेर नवनिधि  
 कुबेर नवनिधि 779 11 ⇨  
 कुबेर: नवनिधि सूची  
 कुबेर नवनिधि सूची 779.12 ⇨  
 कुबेर निधि  
 कुबेर नवनिधि 779 11  
 कुबेर: पत्नी सूची  
 कुबेर: पत्नी सूची 779.7 ⇨  
 कुबेर: पिता  
 कुबेर पिता 779.5 ⇨  
 कुबेर पुरी  
 कुबेर: नगर अलकापुरी 779.8  
 कुबेर पूजक  
 धन पूजक 628.25  
 कुबेर बंधु  
 शिव 767.1  
 कुबेर भक्त  
 धन पूजक 628.25  
 कुबेर: माता  
 कुबेर: माता 779.6 ⇨  
 कुबेर: विमान  
 कुबेर: विमान 779.13 ⇨

- कुबेर सखा**  
किन्नर 778 1  
चित्ररथ 778 6
- कुबेर सेवक**  
गुह्यक 778 11  
यक्ष 779 1
- कुबेरः सीतेला भाई**  
रावण 784 12
- कुबेला**  
अनुपयुक्त अवसर 70 4  
अमंगल काल 797 3
- कुबोध**  
दुर्बोध 519 2 1
- कुबोध्याता**  
अबोध्याता 519 7
- कुबोल**  
कटु वचन 432 3
- कुबोला [कुबोली]**  
कटुभाषी 432 12
- कुब्ज**  
कूब 147 9  
खड्ग 924 3
- कुब्ज [कुब्जा]**  
कुबड़ा [कुबड़ी] 153 23  
कूबयुक्त 147 13
- कुब्जता**  
कुबड़ापन 153 6
- कुब्जा**  
कुब्जा 771 50 ⇨
- कुब्बा**  
गुबदे 611 5
- कुभाषण**  
कटु भाषण 432 4
- कुभाषी**  
कटुभाषी 432 12
- कुमंत्र**  
कुपरामर्श 332 2  
बुरी सीख 332 8
- कुमंत्रणा**  
कुपरामर्श 332 2
- कुमक**  
मौग पूर्ति 656 5  
रसद 656.10  
सहायक सेना 932.5
- कुमकुम**  
कुमकुम 225.16 ⇨  
केसर 274 16
- कुमकुमा**  
कुमकुमा 571.48 ⇨
- कुमति**  
दुर्जन 818.5
- कुमारकै पहाडियाँ**  
भारत उपमहाद्वीपः पर्वत सूची 17 1
- कुमार**  
अग्नि 106 1  
अविवाहित पुरुष 236 17  
अविवाहित पुरुष उपाधि सूची 856 3  
कुमार 234.18 ⇨
- पुत्र 718 3  
बालक 230 23  
मंगल ग्रह 7 7  
यजराज 882 22  
राजकुमार 882 20  
लड़का 230 25  
शुद्ध स्वर्ण 95 5  
स्कन्द 773 50
- कुमारक**  
नेत्र पुतली 141.5
- कुमार संत्र**  
आयुर्वेद आठ अग सूची 172 7  
शिशु चिकित्सा 173 10
- कुमारता**  
किशोर अवस्था 230 27
- कुमार भृत्य**  
प्रसूता चर्या 244 9
- कुमारयाही**  
मोर 126 68
- कुमार व्रत**  
आजीवन ब्रह्मचर्य 234 7
- कुमारसू**  
पार्वती 776 9
- कुमारिका**  
कुमारी 234 17  
नयकुमारी सूची 774 29
- कुमारी**  
अविवाहित स्त्री उपाधि सूची 856 5  
अविवाहिता 234 14  
कुमारी 234.17 ⇨  
कुमारी 774 27 ⇨  
दुर्गा 776 7  
पचकन्या 774 17  
पार्वती 776 9  
बड़ी इलायची 281 10  
मरियम 791 19  
युवराज्ञी 882 23  
राजकुमारी 882 21  
लड़की 230.26  
सीता 770 66
- कुमारी पुत्र**  
कर्ण 771 47
- कुमार्ग**  
अचलनीय मार्ग 1063 3  
दुश्चरित्रता 811 1
- कुमार्गिणी**  
दुश्चरित्रा 811 6
- कुमार्गी**  
दुश्चरित्र 811.5  
व्यभिचारी 806 10
- कुमुख**  
कटुभाषी 432 12  
दुर्मुख 770.39
- कुमुद**  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
कमल 14 4  
कुमुद 14.9 ⇨  
दिग्गज सूची 780.3
- रक्त कमल 14 6
- कुमुद नाथ**  
घंद्रमा 8 2
- कुमुद बाधव**  
घंद्रमा 8 2
- कुमुदिनी**  
कुमुद 14 9
- कुमुदिनी पति**  
घंद्रमा 8 2
- कुमुदती**  
कुमुद 14.9
- कुमुदूर्त**  
अनिष्ट योग 261 30
- कुमेरु**  
दक्षिण ध्रुव 10 12
- कुम्हड़ा**  
कटू 189 10  
पेटा 189 27
- कुम्हड़ीरी**  
बड़ी 192 14
- कुम्हरहा**  
कुम्हरहा 680 35 ⇨
- कुम्हराना**  
कुम्हरहा 680 35
- कुम्हरीटी**  
कुम्हारी मिट्टी 100 12
- कुम्हलाना**  
क्षीणकाय होना 159 7  
म्लान होना 120 7
- कुम्हलाया [कुम्हलाई]**  
म्लान 120 11
- कुम्हलायापन**  
म्लानता 120 4
- कुम्हलावन**  
म्लानता 120 3
- कुम्हलाहट**  
म्लानता 120 4
- कुम्हार [कुम्हारिन]**  
कुम्हार 680.34
- कुम्हारः आवी**  
कुम्हार भट्टी 109 12
- कुम्हार कर्म**  
कुम्हार कर्म 680 33
- कुम्हारगीरी**  
कुम्हार कर्म 680 33
- कुम्हारः घाक**  
घाक 559 15
- कुम्हारः भट्टी**  
कुम्हारः भट्टी 109.12 ⇨
- कुम्हार शाला**  
कुम्हरहा 680.35
- कुम्हारी मिट्टी**  
कुम्हारी मिट्टी 100.12 ⇨
- कुयरा**  
कुख्याति 848 1
- कुयोग**  
अनिष्ट योग 261 30  
अनुपयुक्त अवसर 70.4
- कुसंयोग** 69.3
- कुरंकुर**  
सारस 126.74
- कुरंग**  
हिरन 127.42
- कुरंगनाभि**  
कस्तूरी 274 15
- कुरंग लांछन**  
घंद्रमा 8.2
- कुरंगी**  
मादा हिरन 127.43
- कुरंड**  
कोरंडम 92 7
- कुरंडम (तमिल)**  
कोरंडम 92.7
- कुरंडम**  
कोरंडम 92 7
- कुर-**  
बुरा उपसर्ग सूची 314.11
- कुरआन**  
कुरान 739 2
- कुरकुरा [कुरकुरी]**  
कुरकुरा [कुरकुरी] 197.29 ⇨
- कुरखेत**  
जुता अनबुआ खेत 551 14
- कुरगरा**  
मुँगरी 559.30
- कुरच**  
क्रोध 126 23
- कुरता**  
कुरता 585 33 ⇨
- कुरता पाजामा**  
जोड़ा सूची 583 17
- कुरती**  
कमीज़ 585 30  
कुरती 585 37 ⇨  
भ्लाउज 585 45
- कुरबान**  
बलिदत्त 754.21  
स्वार्थ त्यागी 712.19
- कुरबान करना**  
बलि करना 754.18
- कुरबानगाह**  
बलियेदी 754.5
- कुरबान जाना**  
वारफेर करना 710 19  
सम्प्रीहित होना 367 4
- कुरबान होना**  
आत्मबलि देना 754 19
- कुरबानी**  
घड़ावा 750.12  
पशु बलि 754.8  
बलि कर्म 754 1  
बलि वस्तु 754.2  
युद्ध मृत्यु 249.7  
स्वार्थ त्याग 712.8  
हिसक बलि 754.4

## कुरबानी देना

**कुरबानी देना**  
आत्मबलि देना 754 19  
बलि करना 754 18

**कुरमा**  
खजूर 190 14

**कुरमुरा**  
मुरमुरा 200 9

**कुरमुरा [कुरमुरी]**  
कुरकुरा [कुरकुरी] 197 29

**कुरर**  
कुररी 126 20  
क्रोच 126 23

**कुररी**  
कुररी 126 20 ⇨  
जलपक्षी सूची 126 7  
टिटिहरी 126 42

**कुरल**  
क्रोच 126 23  
पुँधराले केश 137 13

**कुरव**  
कर्कश स्वरीय 299 26

**कुरस**  
बुसा [बुसी] 197 46

**कुरसी**  
आधार सूची 596 2  
कुरसी 595 23 ⇨  
पदवी 652 1  
पीढ़ी 727 27  
भवन कुरसी 610.5  
यान सीट 1076 16  
सत्ता 899 1  
सत्ता आसन 595 8  
सिंहासन 595 9

**कुरसीनामा**  
वशायली 727 13

**कुरसी पंक्तिः बीच मार्ग**  
मध्य वीथिका 1063 52

**कुरसी संभालना**  
सत्तारोहण करना 899 22

**कुरीकुर**  
क्रोच 126 23

**कुराप्य**  
कुशासन 894 3

**कुरान**  
कुरान 739 2 ⇨

**कुरान कंठधर**  
कुरान कंठधर 356 25 ⇨

**कुरानः खंड**  
पारा 739 4

**कुरान पुराण**  
धर्म ग्रंथ 738 1

**कुरान बाइबिल**  
धर्म ग्रंथ 738 1

**कुरान मजीब**  
कुरान 739.2

**कुरान वाक्य**  
आयत 739.3

**कुरान शरीर**  
कुरान 739 2

**कुरानी**  
मुसलिम 736 2

**कुराह**  
असमतल मार्ग 1063 10

**कुरिया**  
छोटा ढेर 686 7

**कुरी**  
छोटा ढेर 686 7

**कुरीति उन्मूलन**  
कुप्रथा उन्मूलन 795 11

**कुरीति नाश**  
कुप्रथा उन्मूलन 795 11

**कुरई**  
डलिया 677 10  
बाँस बेत टोकरा 677 4

**कुरुक्षेत्र**  
जूता अनबुआ खेत 551.14

**कुरुख**  
अप्रसन्न 381 10

**कुरुधिपूर्ण**  
सुखिहीन 401 17

**कुरु भाषा**  
खड़ी बोली 421 12

**कुरराज**  
दुर्गोधन 771 60  
धृतराष्ट्र 771 65

**कुरुल**  
सान पत्थर 559 35

**कुरुवंशी**  
कोरडम 92 7  
सान पत्थर 559 35

**कुरुयिद**  
कोरडम 92 7  
सान पत्थर 559 35

**कुरुयुद्ध**  
भीष्म 771 77

**कुरुभेष्ट**  
अर्जुन 771 36

**कुरुसत्तम**  
अर्जुन 771 36

**कुरुप**  
कुडील 155 5  
कुरुप 156 4 ⇨

**कुरुपता**  
कुरुपता 156.2 ⇨

**कुरुप भूत**  
पिशाच 786 8

**कुरुप्य**  
रौगा 94.13

**कुरेद**  
कुरेद 406.26 ⇨

**कुरेदन**  
उत्कीर्णन 406 19

**कुरेदना**  
उत्कीर्ण करना 406.36  
कुरेदना 406.37 ⇨  
तथ्यान्वेषण करना 336.16

**कुरेदनी**  
कुरेदनी 559.8 ⇨

**कुरेल**  
कुरेद 406 26

**कुरेलना**  
कुरेदना 406 37

**कुरेलनी**  
कुरेदनी 559 8

**कुरोचक**  
अरोचक 401 10

**कुर्र**  
कुर्र 635.21 ⇨

**कुर्रि**  
कुर्रि 635.5 ⇨

**कुर्रि करना**  
कुर्रि करना 635.11 ⇨

**कुर्रि करना**  
कुर्रि करना 635 11

**कुर्रता**  
कुर्रता 585 33

**कुर्रंग**  
नर मुरगी 126 65  
लहटोरा 126 70

**कुर्रंजन**  
पान मूल 112 16

**कुर्रंधर**  
पुत्र 718 3  
संतान 718 1

**कुर्रंधर [कुर्रंधरा]**  
वंशज 727 24

**कुर्रंधरा**  
पुत्री 718 10

**कुर्रंधर**  
सेधमार 864 17

**कुर्र**  
कर्म सघ 692 16  
कुर्र 726.8 ⇨  
गोत्र 729 1  
धर्म सघ 737 8  
पूर्णांशिक 940.13  
मात्र 946 19  
राजवंश 727.5  
वंश 727.1  
वाममार्ग 737.46  
व्यापार संघ 692.17  
संगीत घराना 457 10  
संघ 692.13  
समाज वर्ग 688.7  
सर्व 940.8

**कुर्र आधार व्यवहार**  
कुर्र परंपरा 795 4

**कुर्र एक**  
एकमात्र 946.20

**कुर्रक**  
उच्च कुलीन 728 15  
बड़ा जमींदार 553.15  
समाज वर्ग 688.7  
समूह 690.1

**कुल कज्जल**  
कुल कलक 726.19

**कुलकता**  
उच्च कुलीनता 728 3

**कुलकर्ता**  
वंश प्रवर्तक 727 7

**कुल कर्म**  
कुल परंपरा 795.4

**कुल कलक**  
कुल कलक 726.19 ⇨

**कुल कानि**  
कुल परंपरा 795 4

**कुल कुडलिनी**  
कुडलिनी 757 1

**कुलकेतु**  
कुल गौरव 726 18

**कुलक्रमतः**  
अनुवंशतः 727.44

**कुलक्रमशः**  
अनुवंशतः 727 44

**कुलक्रमगत**  
आनुवंशिक 727 39

**कुलक्रमेण**  
अनुवंशतः 727 44

**कुलक्षण**  
आशुभ राकुन 262 3

**कुलक्षण [कुलक्षणी]**  
कुलक्षणयुक्त 317 28

**कुलक्षणता**  
कुलक्षणता 317 10 ⇨

**कुलक्षणयुक्त**  
कुलक्षणयुक्त 317.28 ⇨

**कुलक्षमता**  
कुलक्षणता 317.10

**कुल गुरु**  
मठाधीश 744 1

**कुल गौरव**  
कुल गौरव 726.18 ⇨

**कुलघा**  
कुलघा 202.22 ⇨  
तंबू, शिखर 600.26

**कुलच्छन [कुलच्छनी]**  
कुलक्षणयुक्त 317.28

**कुलजा [कुलजा]**  
उच्च कुलीन 728.15

**कुल जना**  
कुल जोड़ 954 5

**कुलजा**  
कुलीन स्त्री 728.7

**कुल जोड़**  
कुल जोड़ 954.5 ⇨

**कुलटा**  
व्यभिचारिणी 806.11

**कुलतंत्र**  
कुलतंत्र 881.13 ⇨

**कुलतार**  
कुल गौरव 728.18

कुल तिलक  
कुल गौरव 726 18  
कुलथी  
अनाज सूची 187 6  
कुलवीप  
कुल गौरव 726 18  
कुल वीपक  
कुल गौरव 726 18  
कुल देव  
कुल देवता 772 24  
कुल देवता  
कुल देवता 772.24 ⇨  
कुल देवी  
गृह देवी 772 26  
कुलधर  
पुत्र 718 3  
सतान 718.1  
कुलधर [कुलधरा]  
वंशज 727 24  
कुल धर्म  
कुल परंपरा 795 4  
कुलन  
टीस 392 13  
कुलनष्ट  
वशानष्ट 727 42  
कुलना  
टीसना 392 19  
कुल नाम  
वश नाम 315.7  
कुल नायिका  
नवकन्या 774 19  
कुलनार  
जिप्सम 100 16  
कुल निधि  
गण निधि 628 6  
कुल नीवी  
गण निधि 628.6  
कुलपति  
अध्यक्ष 652 14  
कुलपति 323.13 ⇨  
गृहपति 235.5  
कुलपत्नी  
गृहस्थिन 235 4  
कुल परंपरा  
कुल परंपरा 795.4 ⇨  
कुल पालिका  
सच्चरित्रा 810.6  
कुल प्रदीप  
कुल गौरव 726.18  
कुल प्रांगण  
शिक्षालय परिसर 321.14  
कुलका  
सौंघा सूची 565 20  
कुलका साग  
साग सच्ची सूची 189 4  
कुलकी  
कुलकी 203.49 ⇨  
सौंघा सूची 565.20

कुलबुलाता [कुलबुलाती]  
आतुर 496 11  
कुलबुलाता [कुलबुलाती] 392 23 ⇨  
कुलबुलाना  
आतुर होना 496.7  
कुलबुलाना 392 17 ⇨  
तड़पना 392 20  
कुलबुलाहट  
आतुरता 496 3  
कुलबुलाहट 392.2 ⇨  
कुल बोरना [कुल बोरनी]  
कुल कलक 726 19  
कुल भावना  
स्वजन भावना 725 2  
कुल भूषण  
कुल गौरव 726 18  
कुल मर्यादा  
कुल परंपरा 795 4  
कुलमा  
सासेज 206 39  
कुलयुक्त  
जातियुक्त 730 17  
कुल रीति  
कुल परंपरा 795 4  
कुल ललना  
कुलीन स्त्री 728 7  
कुल लाभ  
कुल लाभ 646.4 ⇨  
कुलवंत [कुलवंती]  
उच्च कुलीन 728 15  
कुलवंती  
कुलीन स्त्री 728 7  
कुल वधु  
कुलीन स्त्री 728 7  
कुल वर्धक  
वंश वर्धक 727 33  
कुलवर्धन  
वंश वर्धक 727 33  
कुल वृद्धि  
वश वृद्धि 727 8  
कुल शृंखला  
वंश 727.1  
कुल संख्या  
कुल संख्या 949.2 ⇨  
कुल संचालन  
गृहस्थी पालन 235.6  
कुल सचिव  
रजिस्ट्रार 323 17  
कुलसत्र  
यज्ञ सूची 753.2  
कुलह  
अँटोतल 555.26  
टोपी 584 7  
तिकोनी टोपी 584.10  
कुलहीन  
अकुलीन 728.16  
अज्ञातवंश 727.38  
जातिहीन 730.18

कुलहेन  
घीड़ 13.7  
कुलांगना  
कुलीन स्त्री 728 7  
कुलांगार [कुलांगारिणी]  
कुल कलक 726 19  
कुलौच  
कुलौच 1084 6 ⇨  
दुन गति 1044 2  
कुलौचना  
कुलौचना 1084.30 ⇨  
कुलौच भरना  
कुलौचना 1084 30  
कुलौच लगाना  
कुलौचना 1084 30  
कुलौट  
कुलौच 1084 6  
कुलागत  
आनुवंशिक 727 39  
दायागत 623 27  
कुलागतता  
आनुवंशिकता 727 17  
कुलागति  
दायागतता 623 19  
कुलाघार  
कुल परंपरा 795 4  
कुलाघार्य  
मठाधीश 744 1  
कुलाधिपति  
गृहपति 235 5  
मठाधीश 744 1  
कुलाध्यक्ष  
कुलाध्यक्ष 323 19 ⇨  
गृहपति 235 5  
कुलाबा  
कुलाबा 609 14 ⇨  
मत्स्य आखेट कौटा 252 17  
मोरी 23 13  
कुलाल [कुलाली]  
कुलकार 680 34  
कुलालिका  
पक्षीशाला 603 12  
पिंजरा 603 17  
कुलाह  
तिकोनी टोपी 584 10  
कुसिंग  
छोटा पक्षी 126.3  
पक्षी 126 1  
कुसिंगक  
गौरैया 126 30  
कुसि  
पाणि 150.1  
कुसिक  
कुलपति 323 13  
कुशल श्रमिक 651 20  
स्वजन 725.1  
कुसिखित  
कुसिखित 412.48 ⇨

कुलिनी  
गृहस्थिन 235 4  
कुलिया  
गली 1063 49  
कुलिरा  
इंद्र वज्र 928 8  
कुल्हाड़ी 559 10  
पाषाण 99.1  
मेघ विद्युत 55 9  
हीरा 96 28  
कुलिस  
हीरा 96 28  
कुली  
अकुशल श्रमिक 651 21  
कुली 1061 4 ⇨  
दास 651 8  
कुली  
बड़ी साली 724 41  
कुली  
राज मजदूर 599 22  
कुली कबारी  
निम्न जन 728 11  
कुलीगीरी  
कुलीगीरी 1061 3 ⇨  
राज मजदूरी 599 21  
कुलीन  
उच्च वर्णीय 731 32  
जातियुक्त 730 17  
ज्ञातवंश 727 37  
विशुद्ध 219 7  
कुलीन [कुलीना]  
उच्च कुलीन 728.15  
कुलीन अकुलीन  
कुलीन अकुलीन 728 14 ⇨  
कुलीन जन  
कुलीन जन 728 5 ⇨  
कुलीनता  
उच्च कुलीनता 728 3  
कुलीनता अकुलीनता  
कुलीनता अकुलीनता 728.1 ⇨  
कुलीन पुरुष  
कुलीन पुरुष 728.6 ⇨  
कुलीन समाज  
कुलीन समाज 728 4 ⇨  
कुलीन स्त्री  
कुलीन स्त्री 728 7 ⇨  
कुलीय  
कुलीय 726.17 ⇨  
कोटीय 936.7  
जातियुक्त 730.17  
सामूहिक 690 13  
कुलीर  
आठ नागराज सूची 778.18  
कुलेख  
कुलेख 412.12 ⇨  
कुलेखः उपमान सूची  
कुलेखः उपमान सूची 412.13 ⇨

कुलेखन करना

कुलेखन करना

कुलेखन करना 412.39 ⇨

कुलोमति

वंशोन्नति 727.10

कुलोन्नायक

वंशोन्नायक 727.36

कुल्या

उप नहर 23 4

छोटी नदी 20 4

जलग्रीवा 24 10

नहर 23.3

नाला 23 8

कुल्ला

कुल्ला 221.3 ⇨

केश गुच्छ 137 5

टोपी 584 7

तिकोनी टोपी 584 10

लट 223 15

कुल्ली

कुल्ला 221.3

लट 223 15

कुल्हड़

कुल्हड़ 684 7 ⇨

कुल्हाका

कुल्हाका 559.9 ⇨

कुल्हाकी

कुल्हाकी 559 10 ⇨

परशु 924 14

कुल्हिया

मैजिया 684.8

सगलन पात्र सूची 565 17

साँचा सूची 565.20

कुल्हिया में गुड़ फोड़ना

गुप्ततः करना 824.15

कुल्हिया: सोना चाँदी सगलन

सोना चाँदी. सगलन 565.13

कुबंग

सीसा 94 14

कुबचन

कुबचन 432.1 ⇨

गाली 433 3

कुबधित

अपवधित 979.23

कुबर्ष

अति वर्षा 54 6

कुबलयापीड

असुर सूची 783 8

कुबिंद

कपका बुनकर 576.5

कुबिकसित

अपोषण प्रस्त 179 23

कुबिचार

दुराशयता 818.4

कुबिचारी

दुराशय 818.9

कुबिधि

विधिहीनता 515.1

कुबिधित

कुबिन्धस्त 527 24

कुबिधिपूर्वक

विधिहीनतः 515.11

कुबिन्धस्त

कुबिन्धस्त 527 24 ⇨

कुबिहित

कुबिन्धस्त 527.24

कुब्यूति

दुश्चरित्रता 811.1

कुब्यूद्धि

अपव्यूद्धि 979 5

कुबेणी

मछली टोकरी 677 9

कुबेशित

कुबेशित 589.28 ⇨

कुबेशिता

कुबेशिता 589 5 ⇨

कुब्ययस्था

अव्ययस्थितता 894.5

कुब्ययस्थित

अव्ययस्थित 894.9

कुब्ययहार

दुर्घ्ययहार 831 1

कुब्यसन

कुब्यसन 812 7 ⇨

कुब्यसनहीन

व्यसनहीन 813 14

कुब्यसनहीनता

व्यसनहीनता 813 5

कुब्यसनी

कुब्यसनी 812.16 ⇨

कुब्यसनी होना

कुब्यसनी होना 812.10 ⇨

कुश

कुश 770.21 ⇨

कुश घास 11 8

घास 11.6

जोत. रस्सी 555.16

दर्भ घास 11.9

राम. पुत्र सूची 770.7

कुशा आसन

कुशा आसन 595.3 ⇨

कुशा घास

कुशा घास 11.8 ⇨

कुशा द्वीप

पौराणिक महाद्वीप सूची 26 7

कुशाप

मद्यपान पात्र 209.38

कुशाप

होज 18 14

कुशा: राजधानी

कुशा. राजधानी 770.23 ⇨

कुशा: राज्य

कुशा: राज्य 770.22 ⇨

कुशाल

प्रवीण 303.22

सुरक्षा 908.4

कुशाल अश्वारोही

कुशाल अश्वारोही 1082 7 ⇨

कुशालकाम

कल्याण कामी 710 23

कुशाल क्षेम

कुशाल क्षेम 710.6 ⇨

सौभाग्य 260.17

कुशाल क्षेम पूछना

कुशाल क्षेम पूछना 710.16 ⇨

कुशाल गायक

कुशाल गायक 460 18 ⇨

कुशाल धितन

कल्याण कामना 710 4

कुशालतः

सुरक्षिततः 908 29

कुशालता

कल्याण 710 2

प्रवीणता 303 8

कुशालतापूर्वक

सुरक्षितत 908 29

कुशाल नट

कुशाल नट 473 12 ⇨

कुशालपूर्वक

सुरक्षितत 908 29

कुशाल प्रश्न

कुशाल प्रश्न 710.7 ⇨

कुशाल प्रश्न्य करना

कुशाल क्षेम पूछना 710 16

कुशाल प्रश्न कर्ता

कुशाल प्रश्न कर्ता 710.25 ⇨

कुशाल श्रमिक

कुशाल श्रमिक 651.20 ⇨

कुशाल समाचार

कुशाल क्षेम 710 6

कुशालहस्त

कुशाल श्रमिक 651.20

कुशास्थली

कुशा राजधानी 770.23

कृष्ण राज्य 771 14

कुशा

कुशा घास 11 8

रस्सी 570.5

लगाम 555.17

कुशाप्र

तीक्ष्ण 270.19

तीक्ष्णधी 301.33

कुशाप्रता

तीक्ष्ण बोध क्षमता 301 13

कुशाप्रधी

तीक्ष्णधी 301.33

कुशावणी

विस्तीर्णता 981 1

कुशावा

विस्तीर्ण 981.10

कुशावाबिल

विशालहृदय 817.11

कुशासन

कुशा आसन 595.3

कुशासन 894.3 ⇨

चटाई 593 49

कुशासनपूर्ण

कुशासनपूर्ण 894.8 ⇨

कुशािक

म्यान 924 12

हल. फाल 563 12

कुशािकित

कुशािकित 321 44 ⇨

कुशीलक

कुशल प्रश्न कर्ता 710 25

कुशीलय

कथा गायक 749 17

गायक 460 17

चारण 841 13

नट 473 10

प्रशसा गायक सूची 841 12

लव कुश 770 54

वाल्मीकि 789 19

कुशतमकुशता

गुत्थमगुत्थी 905 19

कुशतमकुशती

गुत्थमगुत्थी 905 19

कुशता

दग्ध (धातु) 108 17

धातु भस्म 176 20

कुशता बनाना

धातु दहन करना 108 11

कुशती

कुशती 486.7 ⇨

कुशती करना

कुशती लड़ना 486.22

कुशती दौवपेच

कुशती दौवपेच 486.18 ⇨

कुशतीबाज़

कुशतीबाज़ 486 9 ⇨

कुशतीबाज़ी

कुशतीबाज़ी 486.8 ⇨

कुशतीबाज़ी करना

कुशती लड़ना 486 22

कुशती मैदान

कुशती मैदान 482.11 ⇨

कुशती लड़ना

कुशती लड़ना 486.22 ⇨

कुशतो खून

मारकाट 905.25

कुशाक

दग्धक 108 15

कुश

कुश रोग 165 14

कुश रोग

कुश रोग 165.14 ⇨

कुश रोगी

कुश रोगी 165.15 ⇨

कुशी

कुश रोगी 165.15

कुशांड

कद् 189.10



**कुसंग**  
कुसंगति 696.6  
**कुसंगति**  
कुसंगति 696.6 ⇨  
**कुसंयोग**  
कुसंयोग 69.3 ⇨  
**कुसंवाद**  
कुसमाचार 440.3  
**कुसंस्कार**  
असभ्यता 734.1  
दुराशयता 818.4  
**कुसंस्कार प्रदान**  
असभ्यीकरण 734.2  
**कुसंस्कृत**  
असभ्य 734.14  
**कुसज्जितता**  
कुवेशिता 589.5  
**कुसभ्यता**  
असभ्यता 734.1  
**कुसमय**  
अनुपयुक्त अवसर 70.4  
अवनति काल 535.2  
दुर्भाग्य 260.18  
सकट काल 909.7  
**कुसमाचार**  
कुसमाचार 440.3 ⇨  
**कुसली**  
गुठली 112.3  
**कुसयारी**  
रेशम कोया 242.3  
**कुसियारी**  
रेशम कोया 242.3  
**कुसीद**  
ऋण 633.7  
**कुसीद जीविता**  
व्याज जीविता 633.5  
**कुसीद जीवी**  
व्याजजीवी 633.33  
**कुसीद पथ**  
साहकारा 633.3  
**कुसीद वृद्धि**  
व्याज 633.10  
**कुसीदी**  
व्याजजीवी 633.33  
**कुसुंबी**  
गहरा लाल 289.61  
**कुसुंभ**  
केसर 274.16  
**कुसुंभी**  
गहरा लाल 289.61  
**कुसुम**  
उपवन पुष्प 14.1  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
पुष्प 115.6  
रज 130.9  
**कुसुमधन्वा**  
कामदेव 773.12

**कुसुम बाण**  
कामदेव पुष्प बाण 773.18  
**कुसुम रेणु**  
परग 115.12  
**कुसुमवती**  
रजस्वला 130.13  
**कुसुम शय्या**  
पुष्प शय्या 594.3  
**कुसुमशर**  
कामदेव 773.12  
**कुसुम शर**  
कामदेव पुष्प बाण 773.18  
**कुसुमाजन**  
सीसा 94.14  
**कुसुमाकर**  
उपवन 12.11  
पुष्प उपवन 12.12  
वसंत काल 52.1  
**कुसुमागम**  
वसंत काल 52.1  
**कुसुमाधिराज**  
यषा 14.15  
**कुसुमालय**  
पुष्प उपवन 12.12  
**कुसुमासय**  
मधु 280.9  
**कुसुमित**  
पुष्पित 118.14  
**कुसूर**  
दुष्कर्म 812.6  
भूल 498.3  
**कुस्तुंबर**  
धनिया 281.21  
**कुस्तुभ**  
विष्णु 768.1  
समुद्र 24.1  
**कुस्पष्टता**  
कुदृश्यता 282.11  
**कुस्पन्**  
दुःस्पन् 267.3  
**कुस्पभाव**  
कुस्पभाव 838.1 ⇨  
**कुस्पभायी**  
कुस्पभायी 838.8 ⇨  
**कुस्प्याद**  
अरोचक 401.10  
**कुस्वादिच्छ**  
कुस्वादिच्छ 275.22 ⇨  
**कुस्प्यादु**  
कुस्वादिच्छ 275.22  
**कुह**  
अंधकार 286.1  
**कुहकं**  
कुहुक 298.11  
**कुहकनी**  
कोयल 126.21  
**कुहन**  
काँच बरतन 680.2

घृत्हा 109.6  
मिट्टी बरतन 680.8  
**कुहनी**  
आधार सूची 596.2  
कुहनी 149.7 ⇨  
टोडा 611.23  
**कुहनी-कलाई: हथ**  
पहुँचा 149.9  
**कुहनी-मध्यमिका: हथ**  
अग्रहस्त 149.8  
**कुहप**  
असुर दानव दैत्य राक्षस 783.2  
राक्षस सूची 784.4  
**कुहबर**  
कोहबर 800.7  
**कुहर**  
कंठ 145.9  
गडढा 15.1  
छिद्र 271.6  
**कुहरा**  
कोहरा 90.10  
**कुहरा धिरना**  
कुहरा छाना 90.14  
**कुहरा छाना**  
कुहरा छाना 90.14 ⇨  
**कुहराम**  
आर्तनाद 386.3  
विलाप 386.9  
**कुहराम मधाना**  
आर्तनाद करना 386.17  
**कुहरित**  
कुदृश्य 282.21  
कुहरित 90.18 ⇨  
**कुहरितता**  
कुदृश्यता 282.11  
कोहरा 90.10  
**कुहाका**  
कुल्हाड़ा 559.9  
**कुहाकी**  
कुहाकी 559.10  
**कुहासा**  
कोहरा 90.10  
**कुहिन**  
तुषार पात 90.9  
**कुहु**  
कुहुक 298.11  
देवसेना 774.47  
शुद्ध अभावस्था 44.23  
**कुहुकंठ**  
कोयल 126.21  
**कुहुक**  
कुहुक 298.11 ⇨  
**कुहु कुहु**  
कुहुक 298.11  
**कुहु**  
अभावस्था 44.21  
देवसेना 774.47  
शुद्ध अभावस्था 44.23

**कुहलिका**  
कोहरा 90.10  
**कुहेलिका**  
कोहरा 90.10  
**कूकूँ**  
कूकूँ 298.12 ⇨  
भाँक 298.24  
**कूच**  
संकुचन 980.9  
**कूचना**  
रींदना 541.8  
संकुचित करना 980.16  
**कूचा**  
कलछी 681.5  
बड़ी झाड़ू 218.18  
**कूची**  
झाड़ू 218.17  
तुलिका 404.33  
**कूची देना**  
हल चलाना 548.34  
**कूज**  
क्रौंच 126.23  
**कूज**  
ओखली 560.10  
कठौता 679.43  
**कूड़** 679.23 ⇨  
डोल सूची 679.34  
पीपा 678.13  
लौह शिर कवच 921.6  
हल रेखा 551.20  
**कूका**  
कठौता 679.43  
गमला 551.25  
**कूकी**  
कूड़ 679.23  
कूकी 679.45 ⇨  
खरल 560.11  
छोटी कठोरी 683.7  
**कूधना**  
कराहना 386.19  
**कूरै का पानी**  
कूप जल 88.8  
**कूक**  
आर्तनाद 386.3  
कुहुक 298.11  
कूक 1046.9 ⇨  
**कूकना**  
कूकना 1046.20 ⇨  
**कूकनी**  
कूक 1046.9  
**कूकर**  
कुता 127.71  
**कूकर कौर**  
जीवार्थ आहार सूची 183.29  
**कूकर निद्रा**  
श्वान निद्रा 266.4  
**कूका**  
कूका सिख 737.22

## कूका सिख

### कूका सिख

कूका सिख 737 22 ⇨

### कूथ

गमन 1091 1

प्रयाण 907 25

मार्च 1083 11

मृत्यु 249 1

### कूष क्रम

मार्च 1083.11

### कूष करना

प्रयाण करना 907 40

मरना 249 18

### कूष का डंका

प्रयाण ध्वनि 907 26

### कूष का डंका बजना

प्रयाण करना 907 40

### कूष नगाड़ा

प्रयाण ध्वनि 907 26

### कूष बोलना

प्रयाण करना 907 40

### कूष संगीत

प्रयाण संगीत 907 17

### कूषा

गली 1063 49

महल्ला 619 6

### कूषागर्दी

कूषागर्दी 1090 4 ⇨

सौदागर फेरी 1083 17

### कूषाबंद

अधी गली 1063 50

### कूधी

तूलिका 404 33

### कूज

कलरय 298 8

कुहुक 298 11

गुटके मूँ 298 13

धडधडाहट 297 31

### कूजन

गुजार 298 3

### कूजना

फुदकी 126 53

### कूजना [कूजनी]

पोदना 126 51

### कूजा

कुल्हड़ 684 7

कूजा 679 13 ⇨

मालती 14 21

मिसरी. कूजा 280 20

सगलन पात्र सूची 565 17

सौंघा सूची 565.20

### कूट

असत्यतापूर्ण 821 16

कठिन 519 18

कुट 938 8

कुटाई 540 2

कुटाई 220.12

कूट 823 12 ⇨

गुप्त 824 20

देर 686 6

दुर्ग 620 7

दुर्बोध्य 519 23

धैर्यशील 394 15

पर्यंत 16 3

पर्वत शिखर 16 11

पर्वताकार देर 686 8

पशु पाश 1013 12

समस्यात्मक 333 25

सॉड बैल कूब 147 10

सींग 140 8

हल फाल 563 12

### कूट अर्थ

गुप्त अर्थ 426 9

### कूटक

उन्नतोदर 988 9

कैंगनी 1000 7

### कूट रूपट

छल 827 7

### कूटकरण

कूटकरण 98 6 ⇨

### कूटकरण करना

कूटकरण करना 98 10 ⇨

### कूटकार

कूटकार 98 15 ⇨

### कूटकृत

कूटकृत 98.14 ⇨

### कूट कृति

कूट कृति 98 7 ⇨

### कूट खड्ग

गुप्ती 922 8

### कूट जाल

कूट पाश 1013 9

### कूटला

कूटला 823.2 ⇨

दुर्जनता 818 1

### कूटतापूर्ण

कूट 823 12

### कूट तुला

गलत तराजू 962 11

### कूट दंत

कीला 144 6

### कूटन

कुटाई 540 2

### कूटना

अंडाकर्षण करना 238.11

आघात वधित करना 545.23

कुटाई करना 986 7

कूटना 540.9 ⇨

### कूटनीति

कूटनीति 819.1 ⇨

कूट युक्ति 819 8

### कूटनीति: चार उपाय

नीति चतुष्टय 819.2

### कूटनीतिज्ञ

कूटनीतिज्ञ 819 16 ⇨

राजनयिक 443 15

### कूटनीति प्रयोग करना

कूटनीति प्रयोग करना 819 12 ⇨

### कूट पालक

कुभकार 680.34

कुम्हार: भट्टी 109 12

### कूट पालन

कुंभ कर्म 680 33

### कूट पाश

कूट पाश 1013.9 ⇨

### कूट पाश लगाना

पाश लगाना 1013 20

### कूट प्रश्न

अनबुझ पहेली 333 14

पहेली 333.13

### कूट भाषा

कूट भाषा 823 3 ⇨

### कूट मंत्रणा

गुप्त परामर्श 332 4

### कूट मुद्रा

कूट मुद्रा 98 8 ⇨

### कूट यंत्र

कूट पाश 1013 9

### कूट युक्ति

कूट युक्ति 819.8 ⇨

### कूट युक्ति करना

कूट युक्ति करना 819.13 ⇨

### कूट युक्ति कर्तृ

कूट युक्ति कर्ता 819.17 ⇨

### कूट युद्ध

नियम विरुद्ध युद्ध 907 33

### कूट योजना

षडयंत्र 827.8

### कूट रचना

कूट कृति 98 7

### कूट रूप

छद्म वेश 824 12

### कूट लिपि

कूट लिपि 409 3 ⇨

### कूट लेख

कूट लिपि 409 3

जाली दस्तावेज़ 412.21

### कूट बचन

रहस्योक्ति 823 6

### कूट वेश

छद्म वेश 824 12

### कूट शब्द

कूट शब्द 823.4 ⇨

### कूट संकेत

कूट संकेत 823.5 ⇨

### कूट साक्षी

मिथ्या साक्षी 876 19

### कूटस्वध

ईश्वर 764.1

उच्चतम 982 8

### कूट स्वर्ण

अशुद्ध स्वर्ण 95.6

### कूटहंता

बलराम 771.74

### कूटहीन

खरा [खरी] 98 12

### कूटहीनता

धातु खरापन 98 4

### कूटा [कूटी]

कुटाई कर्ता 540.17

### कूटाक्ष

कपट पासा 479 24

### कूटागार

छत. कक्ष 614.23

तहखाना 612 2

बौद्ध मंदिर 745 39

### कूटायुध

गुप्त आयुध 922 7

### कूटायपात

घास से ढँका गड़्ढा 252.26

### कूटास्त्र

गुप्त आयुध 922.7

### कूटी

कुटनी 807 11

दूती 467 16

### कूटू

कूटू 187 7 ⇨

कूटू (यह अनाज नहीं है)

अनाज सूची 187 6

### कूटोक्ति

कुटिल भाषण 432 5

रहस्योक्ति 823 6

### कूड़ा

अनुपयोगी 525 8

कूड़ा 214.3 ⇨

निकृष्ट 314 5

### कूड़ा करकट

कूड़ा करकट 214.4 ⇨

छँटन 526 10

रदी 526.13

### कूड़ा करकट देर

घूरा 218.19

### कूड़ाकोठ

कूड़ेदानी 218 21

### कूड़ा गाड़ी

कूड़ा गाड़ी 1071 5 ⇨

### कूड़ा ट्रक

कूड़ा गाड़ी 1071.5

### कूड़ा डेर

घूरा 218 19

### कूड़ेखाना

कूड़ेखाना 218.20 ⇨

### कूड़ेदान

कूड़ेदानी 218.21

### कूड़ेदानी

कूड़ेदानी 218.21 ⇨

### कूड़

मुख 302.7

हल: पकड़ 563.11

### कूड़मगज़

वप्रीधी 302.9

**कृगिका**

वाघ खूँटी 461.95

**कृत**

अनुमान 308 8

आकलन 947.5

आकलन कर्म 947 6

**कृतन**

आकलन कर्म 947 6

**कृतना**

आकलन करना 947 17

मूल्यांकन करना 664 19

**कृतने वाला**

आकलन कर्ता 947 22

**कृता [कृती]**

आकलित 947 21

**कृथना**

पिटाई करना 918 23

**कृद**

कृद 1086 3 ⇨

डाइविंग 483 12

**कृद बाल**

कृद बाल 484.12 ⇨

**कृदता फौदता [कृदती फौदती]**

उच्चतः कृच्छा [उच्चती कृच्छी] 1086 20

**कृदना**

कृदना 1086.17 ⇨

डाइव करना 483 24

नाथना 462 26

**कृदना फौदना**

उछलना कृदना 1086 16

क्रीडा करना 469 10

**कृदने वाला**

कृदने वाला 1086.22 ⇨

**कृदफौद**

उछल कृद 1086 1

**कृदफौद करना**

उछलना कृदना 1086 16

**कृद लगाना**

कृदना 1086.17

**कृदू फौदू**

उछल कृद कर्ता 1086.21

**कृ देता (क्री)**

सहसा सत्ता अपहरण 902 6

**कृप**

कृप 19.3 ⇨

खत्ती 670.12

गड्डा 15 1

नीका बंधन: खूँटा 1073.18

**कृप उत्खनक**

कृप उत्खनक 19.20 ⇨

**कृप उत्खनन**

कृप उत्खनन 19.19 ⇨

**कृप उत्खोत**

कृप उत्खोत 21.3 ⇨

**कृपक**

छोटा कृप 19.4

नीका बंधन: खूँटा 1073 18

मस्तूल 1073.11

वात कृप 608.21

**कृपक शिखर**

मस्तूल शिखर 1073 12

**कृपकार**

कृप उत्खनक 19 20

**कृप जल**

कृप जल 88.8 ⇨

**कृप जल संधान**

कृप जल संधान 19.18 ⇨

**कृप: ढक्कन**

कृप ढक्कन 19.7 ⇨

**कृप निकट हीज़**

कृप निकट हीज़ 18 15 ⇨

**कृप मंडूक**

रुद्रिवादी 343 24

**कृप मंडूकता**

सकुचित ज्ञान 306 3

**कृप: रस्सी**

कृप रस्सी 19 8 ⇨

**कृप स्वच्छीकरण**

कृप स्वच्छीकरण 19 21 ⇨

**कृपिका**

कपोल गड्डा 140 16

सुभ्रम छिद्र 271 13

**कृपी**

कुप्पी 678 9

धिरनी 1077 39

छोटा कृप 19 4

नाभि कृप 148 4

**कृपुपु**

मूजाराय 152 6

**कृपे**

कृपे 1076 8 ⇨

यान कक्ष 1076 7

**कृपे (अँ)**

कृपे 1076.8

**कृष**

कुबझपन 153 6

कृष 147.9 ⇨

**कृषक**

कृष 147 9

**कृषयुक्त**

कृषयुक्त 147.13 ⇨

**कृषर**

जुआ 1076 22

बम 1076.23

**कृषरपन**

कुबझपन 153.6

**कृषा**

कृष 147.9

**कृम**

तालाब 18.10

प्राकृतिक जलाशय 18.5

**कृमल**

संघ 864.16

**कृर**

अकल्याणकारी 711.9

**कृरियर**

कृरियर 444.20 ⇨

**कृरियर (अँ)**

कृरियर 444 20

धावक संदेश वाहक 443.4

**कृरियर व्यवस्था**

कृरियर व्यवस्था 444 19 ⇨

**कृरियर सेवा**

कृरियर व्यवस्था 444 19

**कृर्य**

दाढ़ी 136 3

पूला 686 19

भूमध्य 141 12

**कृर्य शोखर**

नारियल 13 11

**कृर्यिका**

तूलिका 404 33

फटा दूध 193 8

**कृर्यक**

कृदने वाला 1086 22

**कृर्यर**

कुहनी 149 7

घुटना 149 14

**कृर्य**

कछुआ 123 2

कृर्य अवतार 769 19

विष्णु चौबीस अवतार सूची 769 9

विष्णु दस अवतार सूची 769 8

**कृर्य अवतार**

कृर्य अवतार 769 19 ⇨

**कृर्य पुराण**

पुराण सूची 740 17

**कृर्य पृष्ठ**

कक्ष्य पृष्ठ 134 19

**कृर्यपृष्ठाकार**

उन्नतोदर 988 9

**कृर्यपृष्ठाकारता**

उन्नतोदरता 988 1

**कृर्यराज**

कृर्य भवतार 769 19

**कृर्य शिला**

मूर्ति आधार शिला 406 3

**कृर्यवतार**

कृर्य अवतार 769 19

**कृर्यसन**

योग आसन सूची. 756 19

**कृर्यकषा**

नदी 20 1

**कृर्य**

तट 25 8

नदी तट 25 11

निकटता 31.1

**कृर्यर (अँ)**

एयरकूलर 105.6

शीतलक 105.22

**कृर्यला**

उप नहर 23 4

**कृर्यिंग (अँ)**

शीतलन 105 2

**कृर्यलिनी**

नदी 20 1

**कृर्यल्हा**

कृर्यल्हा 148 11 ⇨

**कृर्यल्हा गड्डा**

कृर्यल्हा गड्डा 148.12 ⇨

**कृर्यल्हा-घुटना: पैर**

जोंघ 149 13

**कृर्यल्हा-पादांगुल: पैर**

पैर 149 12

**कृर्यलत**

बलिष्ठता 160 1

शक्ति 487 1

**कृर्यलांड**

कमंडलु 642 13

**कृर्यलांडी**

दुर्गा 776 7

**कृर्यला**

कोहसा 90 10

**कृर्यलक**

कुतरने वाला 181 56

**कृर्यलन**

कतराई 543 9

कर्तन 543 1

कुतरन 181 12

**कृ (धातु)**

करण 505 1

**कृक**

कठ 145 9

**कृकण**

तीतर 126 43

**कृकलास**

गिरगिट 123 3

छिपकली 123 7

**कृकयाक**

नर मुरगी 126 65

**कृककाट**

कृककाट 145.3 ⇨

**कृककाटक**

कृककाट 145.3

**कृककाटिका**

गुड़ी 145 4

**कृकत**

उत्पादित 546.12

कार्यान्वित 505.27

काव्य शास्त्र भाव 358.2

कृकत 505.20 ⇨

गका [गकी] 545.27

धार उपमान सूची 948.24

निकटता 31.1

पालित (आज्ञा) 347 20

प्रसंस्कृत 527.20

रधित 527 12

लिखित 448.26

समाप्त (कार्य) 522.4

## कृत [कृता]

**कृत [कृता]**  
मुँहबोला [मुँहबोली] 716 21  
**कृतक**  
मानव रचित 527 19  
**कृतक पुत्र**  
दत्तक पुत्र 716 6  
**कृत करना**  
करना 505.10  
**कृत कर्म**  
कार्य 506 1  
**कृतकर्मा**  
विष्णु 768 1  
**कृतकाम**  
पूर्णछ 361 13  
**कृतकार्य**  
सफल 512 6  
**कृतकार्यता**  
सफलता 512 1  
**कृतकृत्य**  
सफल 512.6  
**कृतघ्न**  
कृतघ्न 833 11 ⇨  
विश्वासघाती 827 19  
**कृतघ्नता**  
कृतघ्नता 833 4 ⇨  
विश्वासघात 827 4  
**कृतज्ञ**  
उपकृत 832 8  
कृतज्ञ 833.8 ⇨  
**कृतज्ञता**  
कृतज्ञता 833 1 ⇨  
**कृतज्ञता अभिव्यक्ति**  
धन्यवाद 833.2  
**कृतज्ञता निभाना**  
कृतज्ञता निभाना 833.6 ⇨  
**कृतज्ञता भार**  
कृतज्ञता 833 1  
**कृतज्ञ होना**  
कृतज्ञ होना 833 5 ⇨  
**कृतज्ञता:**  
कृतज्ञता 505.33 ⇨  
परिश्रमपूर्वक 493 14  
**कृतज्ञत्व**  
कर्तृत्व 505 4  
**कृतनिरचय**  
अधिचल 500 15  
**कृतप्रतिज्ञ**  
कृतप्रतिज्ञ 339.44 ⇨  
**कृतयुग**  
सत्ययुग 40 12  
**कृतयुगी**  
सत्ययुगीन 40 17  
**कृत रचना**  
कलाकृति 397.20  
**कृतसंकल्प**  
अधिचल 500.15  
**कृत संबंध**  
मुँहबोला संबंध 716.12

**कृत होना**  
कार्यान्वित होना 505 13  
किया जाना 505 11  
**कृतांक**  
चिह्नित 407 23  
**कृतांत**  
शानि 773 45  
**कृताकृत**  
विष्णु 768 1  
**कृतागम**  
विष्णु 768 1  
शिव 767 1  
**कृतात्मा**  
सदाशय 817 10  
**कृताश्र**  
पक्का खाना 197 4  
**कृताभिषेक**  
सत्कारुढ 899 25  
**कृतार्थ**  
उपकृत 832.8  
कृतज्ञ 833 8  
सफल 512 6  
**कृतार्थ करना**  
शुभागमन करना 1093 7  
**कृतार्थता**  
सफलता 512 1  
**कृति**  
कलाकृति 397 20  
टोना टोटका 759 1  
तंत्र क्रिया 758 3  
पुस्तक 446 1  
बीसः उपमान सूची 948 56  
विष्णु 768 1  
संगीत कृति 457 6  
साहित्य कृति 450 2  
**कृति कर्ता**  
कलाकार 397 16  
**कृति कर्म**  
रचना कर्म 527 1  
**कृतित्व**  
कर्तृत्व 505 4  
रचनाशीलता 527 3  
**कृतित्वहीनता**  
रचनाहीनता 528 2  
**कृति नाम**  
शीर्षक 447 17  
**कृतित्व**  
कापीराइट 621 11  
**कृतित्व शुल्क**  
रायल्टी 621 13  
**कृति स्वामित्व**  
कापीराइट 621.11  
**कृति स्वामी**  
कृति स्वामी 621.12 ⇨  
**कृती**  
पुण्य कर्ता 814.5  
**कृत**  
कारणतः 507.7

**कृति**  
युग अजिन 582 13  
**कृतिका**  
कृतिका 774.30 ⇨  
नक्षत्र सूची 4 6  
**कृतिका: पोषित पुत्र**  
स्कद 773 50  
**कृतिका सूची**  
कृतिका सूची 774.31 ⇨  
**कृतियागम**  
शिव 767 1  
**कृत्य**  
आचरणीय 808 13  
करणीय 505 18  
कार्य 506 1  
धर्म कर्म 747 1  
संस्कार 798 1  
**कृत्यतः**  
कृतत 505.33  
परिश्रमपूर्वक 493.14  
**कृत्यता**  
करणीयता 505 3  
**कृत्या**  
टोना टोटका 759 1  
**कृत्रिम**  
अवास्तविक 821.20  
अस्वाभाविक 836 12  
कृतकृत 98 14  
छद्मपूर्ण 824.27  
दत्तक 716 20  
दिखावटी 825.5  
मानव रचित 527 19  
**कृत्रिम उचग्रह**  
कृत्रिम उचग्रह 1075.12 ⇨  
**कृत्रिम उर्वरण**  
कृत्रिम गर्भदान 241 2  
**कृत्रिम गर्भदान**  
कृत्रिम गर्भदान 241 2 ⇨  
**कृत्रिम धर्म**  
रेक्सीन चमड़ा 581.11  
**कृत्रिमता**  
अस्वाभाविकता 836 6  
छद्म 824.9  
मानव रचितता 527.5  
**कृत्रिमतापूर्ण**  
छद्मपूर्ण 824.27  
**कृत्रिम ताल**  
तालाब 18 10  
**कृत्रिम धार्मिकता**  
धर्म पाखंड 825 3  
**कृत्रिम नभोमंडल**  
तारागण 1.8  
**कृत्य**  
समुदाय 687.1  
**कृप**  
कृपाचार्य 771.51  
**कृपण**  
कृपण 639.26 ⇨

**कृपणता**  
कृपणता 639.9 ⇨  
**कृपया**  
दयापूर्वक 834 18  
**कृपा**  
क्षमादान 872.2  
दया 834 1  
दान 641 1  
वरदान 714 1  
संरक्षणपूर्ण सहायता 700 13  
**कृपा कर के**  
दयापूर्वक 834 18  
**कृपा करना**  
दया करना 834 8  
**कृपाचार्य**  
कृपाचार्य 771 51 ⇨  
**कृपाण**  
कृपाण 924 1 ⇨  
वक्र तलवार 924 9  
**कृपाणी**  
कृपाण 924.1  
कैची 561 4  
घुरी 561 9  
**कृपादान**  
वर प्रदान 714 2  
**कृपा दृष्टि**  
दया दृष्टि 834 3  
**कृपा निधान**  
दयालु 834 12  
**कृपापात्र**  
दयापात्र 834 17  
स्नेहपात्र 368 11  
**कृपापूर्वक**  
दयापूर्वक 834 18  
**कृपापूर्वक देना**  
कृपापूर्वक देना 638 8 ⇨  
**कृपापूर्वक प्रदान**  
कृपापूर्वक प्रदान 638.2 ⇨  
**कृपा भाव**  
दया दृष्टि 834 3  
**कृपाल**  
दयालु 834 12  
**कृपालु**  
दयालु 834 12  
दानी 641 27  
**कृपालुता**  
दानीत्व 641.2  
**कृपा सिंधु**  
दयालु 834.12  
**कृपाहीन**  
अदयालु 835 8  
निर्दय 835.10  
**कृपाहीनता**  
अदया 835.1  
**कृपीसुत**  
अश्वत्थामा 771.41  
**कृमि**  
कृमि 122.6 ⇨

छोटा कीट 122 10  
मकड़ी 122 36  
रोगाणु 122 5  
**कृमि कीट**  
कृमि कीट 122 1 ⇨  
**कृमिघ्न**  
पलाश 13 13  
प्याज 281 24  
**कृमिज**  
अगरू 274 11  
रेशम 568 12  
रेशमी वस्त्र 579 10  
**कृमिजा**  
लाक्षा 290 26  
**कृमिला**  
बहुजननी 243 12  
**कृमिवर्ण**  
लाल वस्त्र 578 22  
**कृमि शैल**  
बॉबी 603 6  
**कृश**  
क्षीणकाय 159 13  
**कृशकाय**  
क्षीणकाय 159 13  
मांसहीन 132 19  
**कृशकायता**  
क्षीणकायता 159 4  
**कृशता**  
क्षीणकायता 159 4  
**कृशांग [कृशांगी]**  
क्षीणकाय 159 13  
**कृशानुरेता**  
शिव 767 1  
**कृशोदरी**  
पतली कमर वाली 158 30  
**कूरन**  
कृष्ण 771 1  
**कृषक**  
कर्षण कर्ता 1051 37  
कृषक 548 2 ⇨  
जमींदार 553 14  
बैल 127 13  
हल फाल 563 12  
हलवाहा 548 4  
**कृषाण**  
कृषक 548 2  
**कृषि**  
कृषि 548 1 ⇨  
कृषि देवी 774 4  
हल कर्म 548 3  
**कृषि उत्पाद**  
फ़सल 547 1  
**कृषि उपकरण**  
कृषि उपकरण 563.1 ⇨  
**कृषि ऋण**  
तक्रावी 647.27  
**कृषिक**  
कृषीय 548.46

**कृषि कर**  
कृषि कर 647 24 ⇨  
**कृषि करना**  
कृषि करना 548 33 ⇨  
**कृषि कर्मा**  
कृषक 548 2  
**कृषिकारिता**  
कृषि 548 1  
**कृषि कीट**  
कृषि कीट 549 5 ⇨  
**कृषि कीट लगना**  
कृषि कीट लगना 549 10 ⇨  
**कृषि क्षेत्र**  
खेत 551 1  
**कृषिज**  
कृषिजन्य 548 47  
**कृषिजन्य**  
कृषिजन्य 548 47 ⇨  
**कृषित**  
हलित 548 48  
**कृषित (अनाज)**  
कृषित (अनाज) 187 21 ⇨  
**कृषित अनाज**  
कृषित अनाज 187.2 ⇨  
**कृषित खाद्यान्न**  
कृषित अनाज 187 2  
**कृषि दास**  
कृषि दास 553 24 ⇨  
**कृषि दासता**  
कृषि दासता 553 23 ⇨  
**कृषि देवी**  
कृषि देवी 774 4 ⇨  
**कृषि देवी सूची**  
कृषि देवी सूची 774 5 ⇨  
**कृषि नारा**  
कृषि हानि 549 1  
**कृषि पुस्तिका**  
अलमनाक 41 3  
**कृषि भूमि**  
कृषि भूमि 552 1 ⇨  
**कृषि भूमि व्यवस्था**  
कृषि भूमि व्यवस्था 553 1 ⇨  
**कृषि भूमि सुधार**  
कृषि व्यवस्था सुधार 553 31  
**कृषि महामारी**  
कृषि महामारी 549 7 ⇨  
**कृषि यंत्र**  
ट्रैक्टर 563 15  
**कृषि रक्षक**  
कृषि रक्षक 550 2 ⇨  
**कृषि रक्षक पुतला**  
कृषि रक्षक पुतला 550.3 ⇨  
**कृषि रक्षण**  
कृषि रक्षण 550 1 ⇨  
**कृषि रक्षण मधान**  
कृषि रक्षण मधान 550.4 ⇨  
**कृषि रक्षा करना**  
कृषि रक्षा करना 550.8 ⇨

**कृषि रोग**  
कृषि रोग 549.6 ⇨  
**कृषि व्यवस्था**  
कृषि भूमि व्यवस्था 553.1  
**कृषि व्यवस्था सुधार**  
कृषि व्यवस्था सुधार 553 31 ⇨  
**कृषि सहयोग**  
कृषि सहयोग 553 27 ⇨  
**कृषि सहयोग सूची**  
कृषि सहयोग सूची 553 28 ⇨  
**कृषि सिंचन**  
सिंचन 548 13  
**कृषि सुधार**  
कृषि व्यवस्था सुधार 553 31  
**कृषि सेयक**  
भूमिहीन कृषक 553 25  
**कृषि स्वामित्व**  
जमींदारी 553 13  
**कृषि हानि**  
कृषि हानि 549 1 ⇨  
**कृषीय**  
कृषीय 548 46 ⇨  
**कृष्ट**  
कृषित 1051 36  
कृषिजन्य 548 47  
कृषित (अनाज) 187 21  
हलित 548 48  
**कृष्ट क्षेत्र**  
जुता खेत 551 12  
**कृष्टयान**  
अनुधान 1070 9  
**कृष्ट!**  
अधिकारपूर्ण 286 14  
अर्जुन 771 36  
अर्जुन सारथी 771 40  
कर्षण कर्ता 1051 37  
काला 289 37  
कृष्ण 771.1 ⇨  
निर्गुण ब्रह्म 764 28  
बैल 127 13  
ब्रह्मा 766 1  
विष्णु 768 1  
विष्णु चौबीस अवतार सूची 769.9  
विष्णु दस अवतार सूची 769.8  
विष्णु पूर्णावतार सूची 769 6  
वेद व्यास 789 21  
**कृष्ण अर्जुन**  
कृष्ण अर्जुन 771.52 ⇨  
**कृष्ण अवतार**  
कृष्ण 771 1  
**कृष्ण: आठ पत्नी सूची**  
कृष्ण: आठ पत्नी सूची 771.12 ⇨  
**कृष्ण कंस**  
शत्रुता उपमान सूची 706.22  
**कृष्णकथा**  
कृष्णकथा 771.20 ⇨  
**कृष्णकथा: ग्रंथ सूची**  
कृष्णकथा: ग्रंथ सूची 771.21 ⇨

**कृष्ण काला**  
कृष्ण 771 1  
**कृष्णकालीन**  
दापर युगीन 40 19  
**कृष्णकेशिनी**  
हर 782.7  
**कृष्ण कोहल**  
अक्ष घृतकर 481 9  
**कृष्ण गंगा**  
कृष्णा नदी 20 9  
**कृष्ण: गुरु**  
सांदीपनि 771 97  
**कृष्ण: ग्राम**  
कृष्ण: ग्राम 771 13 ⇨  
**कृष्णार्धद्र**  
कृष्ण 771 1  
**कृष्ण: चक्र**  
कृष्ण चक्र 771.16 ⇨  
**कृष्ण चक्र**  
सुदर्शन चक्र 928 3  
**कृष्ण: चाचा**  
अकूर 771 33  
**कृष्ण: छटा अंश**  
वेद व्यास 789 21  
**कृष्ण जन्माष्टमी**  
जन्माष्टमी 57 7  
**कृष्ण जातिवी**  
काली जाति 730 9  
**कृष्ण: ज्येष्ठ पुत्र**  
प्रद्युम्न 771 73  
**कृष्ण दोलोत्सव**  
कृष्ण दोलोत्सव 57 31 ⇨  
**कृष्ण द्वैपायन**  
वेद व्यास 789 21  
**कृष्णनयना**  
हर 782 7  
**कृष्ण: निर्धन मित्र**  
सुदामा 771 98  
**कृष्ण नीहारिका**  
कृष्ण नीहारिका 1.13 ⇨  
**कृष्ण पक्ष**  
कृष्ण पक्ष 45.2 ⇨  
**कृष्ण पक्ष: पंदरहवी तिथि**  
अमावस्या 44.21  
**कृष्ण: पत्नी**  
सत्यभामा 771.94  
**कृष्ण: पालक पिता**  
कृष्ण पालक पिता 771.8 ⇨  
**कृष्ण: पालक माता**  
कृष्ण पालक माता 771.9 ⇨  
यशोदा 771.79  
**कृष्ण: पिता**  
कृष्ण: पिता 771.5 ⇨  
वसुदेव 771 86  
**कृष्ण: पितामह**  
शूरसेन 771 92  
**कृष्ण पूजक संप्रदाय**  
वेदांग संप्रदाय 737 49

## कृष्णः पोषक पिता

कृष्णः पोषक पिता  
नद 771 67

कृष्णः पौत्र  
अनिरुद्ध 771 34

कृष्णः प्रधान पत्नी  
रुक्मिणी 771 84

कृष्ण बलभद्र सुभद्रा रथ यात्रा  
रथ यात्रा 57 19

कृष्ण बीसुरी वट  
वशी वट 13 19

कृष्ण बीज  
सहजन 13 24

कृष्णभद्र  
कृष्ण 771 1

कृष्ण भुर्जंग  
करैत 123 18

कृष्णः भ्राता  
कृष्ण भ्राता 771 11 ⇨

कृष्ण माता  
आकाश गंगा 1 14

कृष्णः माता  
कृष्ण माता 771 6 ⇨  
देवकी 771 61

कृष्ण माता  
यशोदा 771 79

कृष्णः मामा  
कस 771 46

कृष्णः मामा  
कृष्ण मामा 771 7 ⇨

कृष्णः माला  
कृष्ण माला 771 18 ⇨

कृष्ण मुकुट  
मोर मुकुट 584 15

कृष्णमुख  
लगूर 127 88

कृष्ण मुद्रा  
त्रिभगी मुद्रा 1029 5

कृष्ण यजुर्वेद  
कृष्ण यजुर्वेद 740.32 ⇨

कृष्णः राजधानी  
कृष्ण राजधानी 771 15 ⇨

कृष्णः राज्य  
कृष्ण राज्य 771 14 ⇨

कृष्ण त्वरण  
काला नमक 279 6

कृष्ण लीला  
कृष्ण लीला 771.24 ⇨  
कृष्ण लीला 463 18 ⇨

कृष्ण लोह  
लोह चुबक 1050 9

कृष्णः विमाता  
कृष्ण विमाता 771.10 ⇨

कृष्ण विषयक  
कृष्ण विषयक 771 99 ⇨

कृष्णः शंख  
कृष्ण शंख 771 17 ⇨

कृष्ण संदेश बाहक  
उद्दय 771 44

कृष्ण सख  
अर्जुन 771 36

कृष्णसारथी  
अर्जुन 771 36

कृष्णसारार  
शीशम 13 22

कृष्णसारिका  
रयामा 126 73

कृष्णः सेना  
कृष्ण सेना 771 19 ⇨

कृष्ण हंता  
जरा व्याध 771 57

कृष्णांश  
वेद व्यास 789 21

कृष्णा  
कृष्णा नदी 20 9  
दुर्गा 776 7

कृष्णा  
द्रौपदी 771 64

कृष्णा  
भारत उपमहाद्वीप नदी सूची 20 7  
योग माया 771 82

कृष्णाग्रज  
बलराम 771 74

कृष्णाघल  
नीलगिरि 17 4

कृष्णा नदी  
कृष्णा नदी 20.9 ⇨

कृष्णाभिसारिका नायिका  
कृष्णाभिसारिका नायिका 456 18 ⇨

कृष्णायास  
लोहा 93 7

कृष्णार्जुन  
कृष्ण अर्जुन 771 52

कृष्णार्जुन संवाद  
गीता 740 14

कृष्णायास  
पीपल 13 14

कृष्णारम  
काला सग मरमर 99 10

कृष्णाष्टमी  
जन्माष्टमी 57 7

कृष्णिका  
रयामा 126 73

कृष्णिमा  
कालिमा 289 12

कृष्णी  
अंधेरी रात 48 3

कृष्णोपदेश  
गीता 740 14

कंचुआ  
केचुआ 122 7 ⇨

कंचुल  
कंचुली 134 17

कंचुली  
कंचुली 134 17 ⇨

कंचुली (दे.)  
सर्प घर्म 582 10

कंत  
बेत 923 8

केंद्र  
केंद्र बिंदु 971.1

केंद्र सरकार 890 14

केंद्रीय प्रशासन 890 13

केंद्रीय स्थान 971 5

केंद्र प्रधान कार्यालय 654 5

केंद्र भू क्रोड 9 11

केंद्र मध्य 996 1

केंद्र राजधानी 620 15

केंद्र की ओर जाना  
केंद्राभिसरण करना 971 16

केंद्र कौलक  
अक्ष दड 1077 12

केंद्र केंद्र  
केंद्राभिसारी 971 26

केंद्र केंद्रगामी  
केंद्राभिसारी 971 26

केंद्र केंद्रण  
केंद्रण 971 7 ⇨

केंद्र केंद्र नगर  
राजधानी 620 15

केंद्र केंद्र पर स्थित करना  
केंद्रित करना 971 14

केंद्र केंद्र बिंदु  
केंद्र बिंदु 971 1 ⇨

केंद्र केंद्र बिंदु (दे.)  
मध्य बिंदु 996 2

केंद्र केंद्र बिंदु विषयक  
केंद्र बिंदु विषयक 971 18 ⇨

केंद्र केंद्र बिंदु से परिधि तक सीधी रेखा  
अर्ध व्यास 972 14

केंद्र केंद्र भ्रष्ट  
केंद्रहीन 971 23

केंद्र केंद्र भ्रष्टता  
केंद्रहीनता 971 9

केंद्र केंद्र यती  
केंद्रयती 971 20 ⇨

केंद्र केंद्र याद  
इकाईयाद 884 15

केंद्र केंद्र विकर्षण  
अपकेंद्र बल 1050 3

केंद्र केंद्र विमुख  
केंद्रविमुख 1023 12 ⇨

केंद्र केंद्र विमुख बल  
अपकेंद्र बल 1050 3

केंद्र केंद्र विषयक  
केंद्र बिंदु विषयक 971 18

केंद्र केंद्र सरकार  
केंद्र सरकार 890.14 ⇨

केंद्र केंद्र से दूर जाना  
केंद्राभिसरण करना 971 17

केंद्र केंद्र स्थ  
केंद्रयती 971 20

केंद्र केंद्र स्थान  
केंद्रिय स्थान 971 5

केंद्र केंद्र हीन  
केंद्रहीन 971.23 ⇨

केंद्र केंद्र हीनता  
केंद्रहीनता 971.9 ⇨

केंद्र केंद्राकर्षण  
अभिकेंद्र बल 1050 2

केंद्र केंद्रानुशासन  
सत्ता केंद्रियकरण 899.6

केंद्र केंद्राभिसरण  
केंद्राभिसरण 971 13 ⇨

केंद्र केंद्राभिसरण करना  
केंद्राभिसरण करना 971.17 ⇨

केंद्र केंद्राभिसारिता  
केंद्राभिसरण 971 13

केंद्र केंद्राभिसारी  
केंद्राभिसारी 971.27 ⇨

केंद्र केंद्राभिसारी चक्र  
अनुचक्र 973.5

केंद्र केंद्राभिसारी चक्रीलता  
अनुचक्रीलता 973 4

केंद्र केंद्राभिसारी बल  
अपकेंद्र बल 1050 3

केंद्र केंद्राभिसरण  
केंद्राभिसरण 1023.11 ⇨

केंद्र केंद्राभिसारी 971 26

केंद्र केंद्राभिसरण बल  
अभिकेंद्र बल 1050 2

केंद्र केंद्राभिसारी  
केंद्राभिसारी 1023 11

केंद्र केंद्राभिसरण  
केंद्राभिसरण 971 12 ⇨

केंद्र केंद्राभिसरण करना  
केंद्राभिसरण करना 971 16 ⇨

केंद्र केंद्राभिसार  
केंद्राभिसरण 971 12

केंद्र केंद्राभिसारिता  
केंद्राभिसरण 971 12

केंद्र केंद्राभिसारी  
केंद्राभिसारी 971.26 ⇨

केंद्र केंद्राभिसारी बल  
अभिकेंद्र बल 1050 2

केंद्र केंद्रिक  
केंद्रीय 971 19

केंद्र केंद्रित  
केंद्रित 971.21 ⇨

केंद्र केंद्रित करना  
संपुंजित 288 10

केंद्र केंद्रित करना  
केंद्रित करना 971 14 ⇨

केंद्र केंद्रित करना  
संपुंजित करना 288 8

केंद्र केंद्रितता  
केंद्रितता 971.6 ⇨

केंद्र केंद्रीकरण  
केंद्रण 971 7

केंद्र केंद्रीकरण  
ध्यान 331.1

केंद्र केंद्रीकरण  
सत्ता केंद्रियकरण 899.6

केंद्र केंद्रीभूत  
केंद्रित 971 21

केंद्र केंद्रीय  
अखिल देश स्तरीय 35 7

केंद्र केंद्र बिंदु विषयक 971 18

- केंद्रवर्ती 971.20  
 केंद्रीय 971.19 ⇨  
 केंद्रीय सत्ता विषयक 899.23  
 राज्य सचीय 881.33  
 केंद्रीयकरण  
 केंद्रण 971.7  
 सत्ता केंद्रीयकरण 899.6  
 केंद्रीय कार्यालय  
 प्रधान कार्यालय 654.5  
 केंद्रीय प्रशासन  
 केंद्रीय प्रशासन 890.13 ⇨  
 केंद्रीय सचिवालय  
 केंद्रीय सचिवालय 654.13 ⇨  
 केंद्रीय सत्ता विषयक  
 केंद्रीय सत्ता विषयक 899.23 ⇨  
 केंद्रीय स्थान  
 केंद्रीय स्थान 971.5 ⇨  
 केक  
 असुर सूची 783.8  
 केक 202.42 ⇨  
 केक (अं)  
 केक 202.42  
 केकड़ा  
 केकड़ा 124.14 ⇨  
 केकयी  
 केकेयी 770.24  
 केकर  
 भेंगा [भेंगी] 164.11  
 केका  
 कुहुक 298.11  
 केकावल  
 मोर 126.68  
 केकी  
 मोर 126.68  
 केकू (अं)  
 भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17.1  
 केका  
 नव पल्लव 115.2  
 केसक  
 कितना [कितनी] 946.11  
 केसकी  
 उपवन पुष्प सूची 14.2  
 केसन  
 ध्वजा 408.4  
 स्थान 33.1  
 केसली  
 केसली 682.20 ⇨  
 चाय काफ़ी. बरतन सूची 680.20  
 पाक भांड सूची 682.2  
 केसा [केसी]  
 कितना [कितनी] 946.11  
 केसिक  
 कितना [कितनी] 946.11  
 केतु  
 उत्तमता: उपमान सूची 313.4  
 उल्का 3.6  
 केतु 6.5 ⇨  
 धूमकेतु 3.9  
 ध्वजा 408.4  
 नवग्रह सूची 261.14  
 शत्रु 706.2  
 सिंहिका पुत्र सूची 783.26  
 केतु ग्रह  
 केतु 6.5  
 केतुजा  
 ताड़का 784.24  
 केतु रत्न  
 लहसुनिया 96.25  
 केतुवीर्य  
 दानव सूची 783.13  
 केदार  
 टीला 16.1  
 थाला 551.23  
 धान खेत 551.7  
 राग रागिनी सूची 457.24  
 केदार नाथ  
 ज्योतिर्लिंग सूची 746.19  
 शिव 767.1  
 केदारेश्वर  
 शिवलिंग सूची 746.17  
 केन उपनिषद  
 उपनिषद सूची 740.13  
 केनियात  
 डॉड 1073.5  
 केप (अं)  
 अतरीप 26.10  
 के बल  
 सहायता से 700.28  
 केबल (अं)  
 तार रस्सा 569.25  
 बिजली तार 102.8  
 रज्जु मार्ग 1066.4  
 केबल: 10  
 समुद्री मील 959.26  
 केबल टीवी  
 केबल टीवी 472.23 ⇨  
 केबल टीवी (अं)  
 केबल टीवी 472.23  
 केबल ट्रेन  
 केबल ट्रेन 1071.65 ⇨  
 केबल ट्रेन (अं)  
 केबल ट्रेन 1071.65  
 केबिन (अं)  
 कमरा 614.1  
 केयूर  
 बाजूबद 228.20  
 केरल  
 केरल 28.21 ⇨  
 केरल: राजधानी  
 केरल: राजधानी 28.22 ⇨  
 केराव  
 मटर 189.31  
 केला  
 केला 190.13 ⇨  
 खाद्य फल सूची 190.2  
 केला: पत्ता  
 पल्लव बरतन 680.7  
 केलास  
 केलास 79.11 ⇨  
 स्फटिक 283.20  
 केलास अयस्था  
 केलास अवस्था 79.10 ⇨  
 केलासन  
 केलासन 81.4 ⇨  
 केलासित  
 केलासित 81.16 ⇨  
 केलि  
 क्रीड़ा 469.4  
 खेल 475.1  
 मनोरंजन 469.1  
 लीला 506.8  
 सरस्वती वीणा 775.9  
 केलिकला  
 रति 774.78  
 केलि कुंचिका  
 छोटी साली 724.40  
 केलिगृह  
 ऐश्वर्य भवन 602.12  
 क्रीड़ागृह 482.2  
 शयन कक्ष 614.21  
 केलि मंदिर  
 क्रीड़ागृह 482.2  
 केलि सचिव  
 नर्म सचिव 467.17  
 केवट  
 गुराज 770.26  
 घण्टु धारी 1080.20  
 नायिक 1080.21  
 केयटाइ  
 नौकायन 1080.1  
 केयल  
 अत्यल्प 942.16  
 अमिश्रित 1008.30  
 एकमात्र 946.20  
 पूर्णांशिक 940.13  
 मात्र 946.19  
 विशुद्ध 219.7  
 केयल अपना  
 वैयक्तिक 689.3  
 केयल एक  
 एकमात्र 946.20  
 एकाकी 697.14  
 केयल ज्ञान  
 केयल ज्ञान 761.5 ⇨  
 केयलता  
 केयलता 948.9  
 केयल ब्रह्म  
 निर्गुण ब्रह्म 764.28  
 केयलान्ता  
 सदाशय 817.10  
 केयली  
 तीर्थकर 792.1  
 केयलीय  
 तीर्थकरिय 792.7  
 केश  
 ककार सूची 407.10  
 केश 137.1 ⇨  
 केश अकर्तन प्रथा  
 केश धारण 13.14  
 केशक  
 केश प्रसाधक 223.20  
 क्षीर कर्मी 224.2  
 केश कटवाने वाला  
 मोना 137.29  
 केश कर्तक  
 क्षीर कर्मी 224.2  
 केश कर्तन  
 केश कर्तन 224.3 ⇨  
 केश कर्तनालय  
 केश कर्तनालय 224.4 ⇨  
 केश कर्मी  
 केश प्रसाधक 223.20  
 केश क्रीट  
 जूँ 122.23  
 केश क्षय  
 केश क्षय 137.15 ⇨  
 केशगर्भ  
 यरुण 773.43  
 केश गुच्छ  
 केश गुच्छ 137.5 ⇨  
 केश: घूंघर  
 केश: घूंघर 137.6 ⇨  
 केशचर्या  
 केश प्रसाधन 223.1  
 केश चुका  
 जूड़ा 223.14  
 केश जाली  
 हेअर नेट 223.12  
 केशदान  
 केश दान 224.7  
 केश दान  
 केश दान 224.7 ⇨  
 केश धारण  
 केश धारण 137.14 ⇨  
 केशधारी  
 केशधारी 137.19 ⇨  
 केशधारी 137.28 ⇨  
 केशपक्ष  
 कनपटी 140.14  
 केश पाशा  
 शिखा 137.10  
 स्त्री. लट 223.16  
 केश प्रसाधन  
 केश प्रसाधन 223.2 ⇨  
 केश प्रसाधक  
 केश प्रसाधक 223.20 ⇨  
 केश प्रसाधन  
 केश प्रसाधन 223.1 ⇨  
 केशबंध.  
 केशबंध 223.9 ⇨

## केश भूषण

**केश भूषण**  
केश शैलीकार 223 21  
**केशभूषा**  
केश संवरण 223 4  
**केश मल**  
केश मल 215 6 ⇨  
**केश मुंडन**  
केश मुंडन 224 5 ⇨  
**केश मुंडित**  
केश मुंडित 224 13 ⇨  
**केश मूंडना**  
केश मूंडना 224 12 ⇨  
**केशयुक्त**  
केशधारी 137 19  
**केश रंजन**  
केश रंजन 223 3 ⇨  
**केशर**  
अयाल 135 9  
केशर 115 11  
केशर 274 16  
मौलसिरी 13 20  
**केशरी**  
अयाली 135 13  
केशरी 781 9  
**केश लुंघक**  
जैन साधु 790 24  
**केश लुंचन**  
केश लुंचन 224 6 ⇨  
केश लुंचन 798 19 ⇨  
**केश लुंचन (दे.)**  
केश लुंचन 224 6  
**केश लुंघित**  
केश लुंघित 798 45 ⇨  
**केशव**  
कृष्ण 771 1  
लबे केश वाला 137 27  
विष्णु 768 1  
विष्णु मूर्ति सूची 746 7  
सुंदर केश वाला 137 24  
**केशवायुध**  
आम वृक्ष 13 5  
**केशवायास**  
पीपल 13 14  
**केश विन्यास**  
केश संवरण 223 4  
**केश वेष्ट**  
सीमंत 223 18  
**केश शोखरापीठ योजना**  
घोसठ कला सूची 397 4  
**केश शैलीकार**  
केश शैलीकार 223.21 ⇨  
**केश संवरण**  
केश संवरण 223 4 ⇨  
सोलह सिंगार सूची 222 3  
**केशहस्त**  
सुंदर केश 137 12  
**केशहीन**  
केशहीन 137.20 ⇨

गजा 137 30  
**केशहीनता**  
गजापन 137 16  
**केशहीन सिर**  
केशहीन सिर 137.17 ⇨  
**केशांत**  
केश मुंडन 224 5  
मुंडन सस्कार 798 18  
सोलह सस्कार सूची 798 3  
**केशार्पण**  
केश दान 224 7  
**केशि**  
असुर सूची 783 8  
**केशिक**  
सुंदर केश वाला 137 24  
**केशिनी**  
अप्सरा सूची 782 3  
दुर्गा 776 7  
**केशिहा**  
विष्णु 768 1  
**केशी**  
अयाली 135 13  
कृष्ण 771 1  
दानव सूची 783 13  
वेणी 223 17  
सिंह 127 50  
**केशी (केशिनी)**  
केशधारी 137 19  
लबे केश वाला 137 27  
सुंदर केश वाला 137 24  
**केशी दानवः पत्नी**  
देत्यसेना 774 48  
**केशोच्चय**  
सुंदर केश 137 12  
**केशोत्पाटन**  
केश लुंचन 798 19  
**केश (अँ)**  
डिब्बा 676 1  
मुकदमा 875 1  
**केशमैट (अँ)**  
दसूती 580 26  
**केशर**  
केशर 115 11 ⇨  
केशर 274 16 ⇨  
पराग 115 12  
स्वर्ण 95 4  
**केशराचल**  
सुमेरु 17.17  
**केशरिया**  
केशरिया 289 40 ⇨  
**केशरी**  
अयाली 135 13  
उत्तमता उपमान सूची 313.4  
केशरिया 289 40  
केशरी 781 9 ⇨  
घोड़ा 127 35  
यानर सूची 781 7  
सिंह 127.50

**केशरी किरोर**  
हनुमान 781 19  
**केशरीः पत्नी**  
अजना 781 20  
**केशारी**  
अनाज सूची 187 6  
**केशरिनहा**  
बघनखा 922 9  
**केशरी**  
सिंह 127 50  
**केशा**  
मोर 126 68  
**केशि**  
किस 316 3  
किसे 316 29  
**केशि कारण**  
व्यो 507 9  
**केशा [केशी]**  
भेगा [भेगी] 164 11  
**केशी**  
केशी 561 4 ⇨  
**केशी से कटाई**  
कतराई 543 9  
**केश (अँ)**  
सेना छावनी 933 7  
**केशीलीवर त्रिज (अँ)**  
छजलीपुं पुल 1065 10  
**केशोनमैट (अँ)**  
सेना छावनी 933 7  
**केशल पावर (अँ)**  
चद्रता माप 958 49  
**केशलमस**  
केशलमस 57 58 ⇨  
**केशलमस (अँ)**  
केशलमस 57 58  
**केशलमस डे (अँ)**  
केशलमस 57 58  
**केशलसैस (अँ)**  
केशलता 285 33  
**केशडा**  
अटकल 947 3  
मानदड 957 5  
मापी 958.3  
**केशिडेट (अँ)**  
परीक्षार्थी 322 14  
**केशी (अँ)**  
मिठाई गोली 203 51  
**केश (अँ)**  
अस्थायी स्थान 618 15  
सैनिक शिविर 933.11  
**केशस (अँ)**  
विद्यालय परिसर 604 2  
शिक्षालय परिसर 321 14  
**केशर**  
केशर 167 4 ⇨  
**केशर (अँ)**  
केशर 167 4

**केश**  
अथवा 945 13  
कितना [कितनी] 946 11  
**केश**  
यमन 215 26  
वमित पदार्थ 215 25  
**केशस**  
पिशाच 786 8  
राक्षस 784 1  
**केशरी**  
राक्षस स्त्री सूची 784 23  
रावण माता 784 14  
**केशेयी**  
केशेयी 770 24 ⇨  
दशरथ पत्नी सूची 770 34  
राम विमाता सूची 770 4  
**केशेयीः दासी**  
मथरा 770 44  
**केश (अँ)**  
पीपा 678 13  
**केश**  
केश 475 27 ⇨  
**केश (अँ)**  
केश 475 27  
**केशप**  
केशप 201.3 ⇨  
**केशप (अँ)**  
केशप 201 3  
**केशुअल लीव (अँ)**  
आकस्मिक अवकाश 494 10  
**केशभ**  
असुर 783 6  
असुर सूची 783 8  
देत्य सूची 783 19  
**केशभा**  
दुर्गा 776 7  
**केशभारि**  
विष्णु 768 1  
**केशल (अँ)**  
केशली 682.20  
**केशलाग (अँ)**  
विषरण पुस्तक 446 19  
सूची पुस्तक 442 11  
**केशयाक**  
केशयाक 1065 4 ⇨  
**केशवाक (अँ)**  
केशयाक 1065 4  
**केशापुष्ट (अँ)**  
ग्लाइडर विंच 1074 8  
**केशापुल्लिंग (अँ)**  
गुलेलारोहण 1081 19  
**केशलाग (अँ)**  
सूची पत्र 993 6  
**केश आई (अँ)**  
लहसुनिया 96 25  
**केशव**  
छल 827.7  
घृत 481 1



घटूरा 212 7  
 बटमारी 864 33  
**कैथलिक**  
 कैथलिक मतावलंबी 736 21  
**कैथलिक चर्च**  
 कैथलिक मत 736 20  
**कैथलिक मत**  
 कैथलिक मत 736 20 ⇨  
**कैथलिक मतावलंबी**  
 कैथलिक मतावलंबी 736 21 ⇨  
**कैथारिंस**  
 कैथारिंस 399 15 ⇨  
**कैथारिंस (अँ)**  
 कुठा मोचन 352 12  
 कैथारिंस 399 15  
**कैथीड्रल**  
 कैथीड्रल 745 21 ⇨  
**कैथीड्रल (अँ)**  
 कैथीड्रल 745 21  
**कैथोलिक**  
 कैथोलिक मतावलंबी 736 21  
**कैथोलिक मत**  
 कैथोलिक मत 736 20  
**क्रैद**  
 कारागार 868 21  
 निषेध 880 1  
 बदीकरण 868 1  
 बदीकृत 868 34  
 बदीकृतता 868 5  
**क्रैद करना**  
 बदी बनाना 868 29  
**क्रैद करने वाला**  
 बदी कर्ता 868 35  
**क्रैदस्थान**  
 कारागार 868 21  
**क्रैदघर**  
 कारागार 868 21  
**क्रैद तनहाई**  
 एकांत कारावास 868 17  
**क्रैद बामुशकृत**  
 कठोर कारावास 868 15  
**क्रैद महज़**  
 साधारण कारावास 868 16  
**क्रैद में डालना**  
 बदी बनाना 868 29  
**क्रै दस्त**  
 हैज़ा 215 28  
**क्रैदी**  
 बदी 868 18  
 बदीकृत 868 34  
**क्रैदी गाड़ी**  
 बदी गाड़ी 1070 15  
**कैन (अँ)**  
 कनस्तर 679 40  
 जैरी कैन 679.41  
 टीन डिब्बा 676.3  
 डिब्बा 676 1  
 बाल्टी 679.37

**कैनटीन**  
 कैनटीन 194 4 ⇨  
**कैनटीन (अँ)**  
 कैनटीन 194 4  
**कैनन**  
 कैनन 739 9 ⇨  
**कैनन (अँ)**  
 कैनन 739 9  
**कैनन (अँ)**  
 कैनन चित्र 404 5  
**कैननस चित्र**  
 कैननस चित्र 404 5 ⇨  
**कैनवैसर (अँ)**  
 समर्थन याचक 329 26  
**कैनवैसिंग (अँ)**  
 समर्थन याचना 329 5  
**कैनाल (अँ)**  
 नहर मार्ग 1066 7  
**कैनिबाल (अँ)**  
 स्वजाति भक्षी 205 11  
**कैनिस्टर (अँ)**  
 कनस्तर 679 40  
**कैन्ड (अँ)**  
 टीनबद 1014 11  
**कैप (अँ)**  
 टोपी 584 7  
 दबकन 675 6  
 पोला 675 8  
**कैपिटल (अँ)**  
 पूंजी 628 9  
 मूलधन 633 9  
 राजधानी 620 15  
**कैपिटलिज़्म (अँ)**  
 पूंजीवाद 884 18  
**कैपिटलिस्ट (अँ)**  
 पूंजीपति 628 10  
**कैप्टेन (अँ)**  
 कप्तान 935 7  
 टोली नेता 475 20  
 पोताध्यक्ष 1080 16  
**कैप्सूल**  
 कैप्सूल 176.13 ⇨  
**कैप्सूल (अँ)**  
 कैप्सूल 176 13  
**कैफ़ियत**  
 परिस्थिति 69 5  
 विधरण 449 8  
 स्पष्टीकरण 876 11  
**कैफ़ियतलंबी**  
 स्पष्टीकरण मॉग 875.19  
**कैफ़ी**  
 मदोन्मत्त 211 15  
**कैब (अँ)**  
 टैक्सी 1071 59  
**कैबिनेट (अँ)**  
 अलमारी 671 1  
 खानो वाली अलमारी 671 4  
 मंत्रणा कक्ष 614.15

मन्त्री मंडल 889 16  
**कैबी (अँ)**  
 टैक्सी ड्राइवर 1079 15  
**कैम**  
 कदम 13 6  
**कैम 1077.26 ⇨**  
**कैम (अँ)**  
 कैम 1077 26  
**कैमरा**  
 कैमरा 405.16 ⇨  
**कैमरा (अँ)**  
 कैमरा 405.16  
**कैमरा चलाना**  
 फोटोग्राफी करना 405 26  
**कैमरामैन (अँ)**  
 फ़िल्मांकनकार 472 16  
 फोटोग्राफर 405 15  
**कैमल लैदर (अँ)**  
 ऊँट चर्म 582 7  
**कैम शाफ़्ट**  
 कैम शाफ़्ट 1077 27 ⇨  
**कैम शाफ़्ट (अँ)**  
 कैम शाफ़्ट 1077 27  
**कैमिकल (अँ)**  
 रसायन 87 1  
**कैमिकल फ़ैब्रिक (अँ)**  
 रासायनिक वस्त्र 579 14  
**कैमिकल यान (अँ)**  
 रासायनिक धागा 569 15  
**कैमिकल्स (अँ)**  
 रसायन 87 1  
**कैमिस्ट (अँ)**  
 औषध विक्रेता 175 8  
 रसायनज्ञ 87.5  
**कैमिस्ट भार माप**  
 औषधिक भार माप 962 60  
**कैमिस्ट्री (अँ)**  
 रासायनिकी 87 4  
**कैमिस्टस (अँ)**  
 औषध दुकान 175.9  
**कैमोथैरपी (अँ)**  
 रसायन चिकित्सा 172 18  
**कैरट**  
 कैरट 962 31 ⇨  
**कैरट (अँ)**  
 कैरट 962 31  
 रत्न भार माप एकक 958 9  
**कैरट (अँ) (स्वर्ण)**  
 धातु खरापन 98 4  
**कैरम (अँ)**  
 कैरम खेल 478 1  
**कैरम खेल**  
 कैरम खेल 478 1 ⇨  
**कैरम बोर्ड**  
 कैरम खेल 478 1  
 कैरम बोर्ड 479 37 ⇨  
**कैरम बोर्ड (अँ)**  
 कैरम बोर्ड 479 37

**कैरल शास्त्र**  
 प्रश्न विचार शास्त्र 262 10  
**कैरय**  
 अक्ष घृतकर 481 9  
 बटमार 864.34  
 श्वेत कमल 14 7  
**कैरयिणी**  
 कुमुद 14 9  
**कैरात**  
 किरात जातीय 732 16  
 राग रागिनी सूची 457 24  
**कैरातक**  
 किरात जातीय 732.16  
**कैरातिक**  
 किरात जातीय 732 16  
**कैरिकेचर**  
 कैरिकेचर 404.13 ⇨  
**कैरिकेचर (अँ)**  
 कार्टून 450 24  
 कैरिकेचर 404 13  
**कैरिकेचरिस्ट (अँ)**  
 कार्टूनिस्ट 404 27  
**कैरिज (अँ)**  
 सवारी यान 1071 17  
**कैरिज वे (अँ)**  
 वाहन मार्ग 1063 12  
**कैरियर (अँ)**  
 भार यान 1071 2  
**कैरेक्टर (अँ)**  
 चरित्र पात्र 467 1  
**कैरेक्टर ऐक्टर (अँ)**  
 चरित्र अभिनेता 464 9  
**कैरेयान**  
 कैरेयान 1071 57 ⇨  
**कैरेयान (अँ)**  
 कैरेयान 1071.57  
**कैरेयल (अँ)**  
 नौका सूची 1072 3  
**कैलंडर**  
 कैलंडर 41 4 ⇨  
**कैलंडर (अँ)**  
 कार्य सूची 993 3  
 कैलंडर 41 4  
**कैल**  
 काष्ठ सूची 597 2  
**कैलकुलस (अँ)**  
 कलन गणित 953 6  
**कैलाइबोस्कोप (अँ)**  
 फूलबीन 283 9  
**कैलाश**  
 कैलास शिखर 17.2  
**कैलाश नाथ**  
 शिष्य 767.1  
**कैलाश पर्वत**  
 भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1  
**कैलाशवासी**  
 मृत व्यक्ति उपाधि सूची 858.7

## कैलास

### कैलास

कैलास शिखर 17 2  
शिव आवास 767 18

### कैलास नाथ

कुबेर 779 4

### कैलास पति

कुबेर 779 4

### कैलासवास

मृत्यु 249 1

### कैलासवासिनी

दुर्गा मूर्ति सूची 746 4

### कैलासयासी

मृत 249 23

मृत व्यक्ति उपाधि सूची 856 7

### कैलास शिखर

कैलास शिखर 17.2 ⇨

### कैलासाधिपति

शिव 767 1

### कैलासाक्षर (अं)

रुलेखक 412 47

### कैलाबर (अं)

अतर्व्यास 972 13

### कैलेडर वर्ष

कैलेडर वर्ष 429 ⇨

### कैलोटाइप (अं)

फोटोग्राफी प्रारंभिक विधि सूची 405 5

### कैसोरी

कैसोरी 103 9 ⇨

### कैल्कुलेटर (अं)

गणित 950 13

### कैल्कुलेटिंग (अं)

परिकलन 953 9

### कैल्कुलेटिंग मशीन (अं)

गणित 950 13

### कैल्लियम (अं)

चूना पत्थर 99 4

### कैयर्त

चप्पू धारी 1080 20

नायिक 1080 21

### कैवलरी (अं)

अश्व सेना 932 11

घोड़ा समूह 690 12

### कैयल्य

अनासक्ति 366 1

तीर्थकारी 792 7

मोक्ष 257 1

### कैयल्य ज्ञान

केवल ज्ञान 761 5

### कैयिक्ट (अं)

परलुक्त 339 10

### कैबेलियर (अं)

अश्व सैनिक 934 8

### कैरा (अं)

रोकड़ 630 9

### कैरा इन ईड (अं)

रोकड़ 630 9

### कैरा क्रौप (अं)

नरुदी फसल 547 3

### कैरा बाक्स

कैरा बाक्स 630 4 ⇨

### कैरा बाक्स (अं)

कैरा बाक्स 630 4

### कैराबुक

जमाखर्च बही 632 15

### कैरा बुक (अं)

रोकड़ बही 632 19

### कैरा मीमो

कैरा मीमो 632 26 ⇨

### कैरा मीमो (अं)

कैरा मीमो 632 26

### कैरा रजिस्टर

कैरा रजिस्टर 950 16 ⇨

### कैरा रजिस्टर (अं)

कैरा रजिस्टर 950 16

### कैरा सेल (अं)

नकद विक्रय 661 5

### कैशियर

कैशियर 630 13 ⇨

### कैशियर (अं)

कैशियर 630 13

### कैशोर्ध

किशोर अवस्था 230 27

### कैसर

कैसर 882 12 ⇨

### कैसा

कैसा 317 29 ⇨

### कैसा [कैसी]

कैसा 317 29

### कैसिनो

कैसिनो 481 15 ⇨

### कैसिनो (अं)

कैसिनो 481 15

### कैसीनो चक्र

कैसीनो चक्र 481 16 ⇨

### कैसे

कैसे 514 20 ⇨

### कैसे कैसे

जैसे कैसे 514 22

### कैसेट (अं)

आडियो कैसेट 300 21

### कैसेट प्लेयर

कैसेट प्लेयर 300 20 ⇨

### कैसेट प्लेयर (अं)

कैसेट प्लेयर 300 20

### कैसे भी

जैसे कैसे 514 22

### कैसे भी नहीं

कभी नहीं 72 12

### काँइछा

उब 672 7

### काकणी

भारत राष्ट्रभाषा सूची 421 4

### काँघ

चुमन 270 1

### काँघना

छरोघना 270 12

जोत यान चलाना 1079 18

पशु वेग बढ़ाना 1043 12

### काँघनी

काँघनी 555 22

### काँघा

अकुश 555 20

काँघनी 555 22

### काँघ

पलाव: छोर 586 25

### काँडा

छल्ला 1016 29

### काँदना

पशु वेग बढ़ाना 1043 12

### काँपल

अकुर 113 1

### काँपल

आरंभिक अवस्था सूची 994 23

नव पल्लव 115 2

### काँपल

पल्लवाकुर 113 3

### काँआ

नेत्र कोर 141 4

रेशम कोया 242 3

### काँईदा

महुआ 190 31

### काँइवार

निकटवर्ती खेत 551 4

शाक खेत 551 10

### काँइनद

महुआ 190 31

### काँइशार

निकटवर्ती खेत 551 4

शाक खेत 551 10

### काँइल

कोयल 126 21

### काँइलिया वेताल

काँइलिया वेताल 786 13 ⇨

### काँई

अदाजन 947 28

काँई 316 7 ⇨

### काँई अन्य

इतर 945 5

### काँई एक

काँई एक 946 21 ⇨

### काँई एक (जैसे: काँई दस एक)

अदाजन 947 28

### काँई और

इतर 945 5

### काँई और नहीं

अनेतर 945 6

### काँई और समय

मित्र काल 60 1

### काँई काँई

असामान्य 312 14

काँई एक 946 21

### काँई दिन

अनिकट भविष्य मे 36 36

### काँई भी

सामान्य 311.3

### काँई संबंध न रखना

बहिष्कार करना 870 20

### काँई सहायक न होना

असहाय होना 701 5

### काँऐयुलेटिड अवस्था

स्कदित अवस्था 79 6

### काँओपरेटिव (अं)

सहकारी संस्था 700 8

### काँओपरेटिव कमिटी (अं)

सहकारी समिति 700 7

### काँओपरेटिव फार्मर (अं)

सहकारी कृषक 553 30

### काँओपरेटिव फार्मिंग (अं)

सहकारी खेती 553 29

### काँओपरेशन (अं)

सहकारिता 700 6

### काँक

असुर सूची 783 8

कच्ची बखिया 577 9

चकया 126 31

छिपकली 123 7

मेढक 124 2

विष्णु 168 1

### काँक (अं)

कोयला 110 6

### काँकदेय

कचूतर 126 16

### काँकनद

रक्त कमल 14 6

### काँकना

कच्ची सिलाई करना 577 24

### काँक विकोक

असुरादि जोड़ी सूची 783 4

### काँकहर

चंद्रमा 8 2

### काँकाकोला (अं)

कोला 208 9

### काँकिल

कोयल 126 21

### काँकिल कंठ

मधुर स्वर 299.8

### काँकिलकंठ

मधुर स्वरीय 299 25

### काँकिल कंठी

मधुर स्वरीय 299 25

### काँकिला

कोयल 126 21

### काँकिलायास

आम वृक्ष 13.5

### काँकिलोत्सव

आम वृक्ष 13.5

### काँकी

मादा चकया 126.32

### काँकीन

काँकीन 212 3 ⇨

**कोकीनची**  
कोकीनची 212.13 ⇨  
**कोकीनबाज़**  
कोकीनची 212 13  
**कोकून (अँ)**  
रेशम कोया 242 3  
**कोकेन (अँ)**  
कोकीन 212 3  
**कोको**  
कोआ 126 22  
**कोख**  
गर्भाशय 152 14  
पेट 148 1  
भू क्रोड़ 9 11  
**कोख उखड़ना**  
बच्चे हो कर मर जाना 240 8  
**कोख का रिस्ता**  
जनन संबंध 716 1  
**कोखजना [कोखजनी]**  
औरस 716.15  
**कोख जलना**  
बच्चे हो कर मर जाना 240 8  
**कोखजली**  
वध्या 238 16  
**कोखहीना**  
वंध्या 238 16  
**कोथ**  
युभन 270 1  
सकुचन कारी 980 27  
सकोच 845 5  
**कोथ (अँ)**  
खेल प्रशिक्षक 475 18  
बग्धी 1071 39  
बस 1071.60  
रेलगाड़ी डिब्बा 1076 4  
दैन 1071 61  
**कोथनी**  
कोथनी 555.22 ⇨  
**कोथवान**  
बग्धी चालक 1079 8  
**कोजागर**  
शरद पूर्णिमा 57 26  
**कोट**  
कोट 585.50 ⇨  
दुर्ग 620 7  
दुर्ग परकोटा 604 14  
परकोटा 604 11  
महल 602.32  
**कोट (अँ)**  
कोट 585.50  
**कोट करना**  
मूल्य निवेदन करना 664.21  
**कोट पतलून**  
कोट पतलून 583.18 ⇨  
जोड़ा सूची 583.17  
**कोट पतलून: रूपड़ा**  
कोट पतलून: रूपड़ा 579.17 ⇨

**कोटपाल**  
दुर्गपाल 891.8  
**कोट पीस**  
कोट पीस 478.11 ⇨  
**कोट पैंट**  
कोट पतलून 583 18  
जोड़ा सूची 583.17  
**कोटर**  
तरु कोटर 603 2  
पोल 271 17  
शरीर रंघ 138 1  
**कोट रक्षण**  
पुलिस कर्म 866.2  
**कोटराकारता**  
नतीदरता 989 1  
**कोटला**  
छोटा दुर्ग 620 8  
**कोटि**  
अर्धघट्ट छोर 1000 6  
कक्षा 691 3  
करोड़ 948 77  
कोटि 936 1 ⇨  
चक्र आठवाँ भाग 960 5  
छोर 1000 3  
जाति 730 1  
धनुष छोर 926 14  
नोक 270 8  
समाज वर्ग 688 7  
**कोटि अनुसार**  
कोटि अनुसार 936 15 ⇨  
**कोटिक**  
अत्यधिक 944 7  
असख्य 944 8  
करोड़ 948 77  
**कोटिकरण**  
कोटिकरण 936.5 ⇨  
**कोटिकरण करना**  
कोटिकरण करना 936 6 ⇨  
**कोटिकरण कर्ता**  
कोटिकरण कर्ता 936 14 ⇨  
**कोटिकरण विषयक**  
कोटिकरणीय 936 12  
**कोटिकरणीय**  
कोटिकरणीय 936.12 ⇨  
**कोटिकृत**  
कोटिकृत 936.13 ⇨  
**कोटि च्युति**  
जाति निर्वासन 870.11  
**कोटिच्युति**  
समूह निर्वासन 870 12  
**कोटिपात्र**  
कर्ण 1073.2  
**कोटियाँ में छौटना**  
कोटिकरण करना 936.6  
**कोटिर**  
नेचला 127 69  
**कोटिया:**  
अनेकदा 73.6

**कोटि सूचना**  
विशेषण 425.11  
**कोटि स्तर**  
मानदंड 957 5  
**कोटिहीन**  
जातिहीन 730 18  
**कोटी**  
उरोभाग 585 71  
घोली 585 38  
**कोटीय**  
कोटीय 936 7 ⇨  
**कोटीर**  
जटा 137 7  
**कोटीश्वर**  
करोड़पती 626 6  
**कोट्ट**  
कूट्ट 187 7  
**कोट्टची**  
दुर्गा 776 7  
**कोट्टार**  
तालाब सीकियाँ 18 13  
लफगा 811 8  
**कोट्टघडीरा**  
करोड़पती 626 6  
**कोट्टघनुसार**  
कोटि अनुसार 936 15  
**कोट्टरी**  
कारागार कोठरी 868 23  
काल कोठरी 868 24  
कोठरी 670 10 ⇨  
कोठरी 614 3 ⇨  
छोटा भवन 602 9  
हवालात 868 12  
**कोठा**  
अनाज गोदाम 670 18  
कुठला 670 9  
कोष्ठक चिह्न 425 43  
गोटी घर 479 2  
घून बबारा 670 20  
छत कक्ष 614 23  
झाड़ू रूम 614 16  
नृत्य शाला 471 8  
बड़ा कमरा 614 2  
बहुखडी भवन 602 21  
भंडार घर 670 5  
मुजाकूति 969 2  
वेश्यालय 807 13  
सगीत शाला 471 10  
**कोठार**  
अनाज गोदाम 670 18  
भंडार घर 670 5  
**कोठारी**  
कोशाध्यक्ष 630 12  
भंडार अध्यक्ष 670 6  
**कोठिला**  
कुठला 670 9  
**कोठी**  
पेड़ी 862 5

**कोणमान (दे चक्रांश माप)**  
बँगला 602 13  
भंडार घर 670 5  
**कोठीयाल**  
साहूकार 633 4  
**कोठी वाली**  
मुड़ी 409 9  
**कोठीयाली**  
साहूकारा 633 3  
**कोठेवार**  
भंडार अध्यक्ष 670 6  
**कोठे पर जाना**  
वेश्यागमन करना 807 14  
**कोठे पर बैठना**  
वेश्या वृत्ति करना 807 15  
**कोठे वाली**  
वेश्या 807 5  
**कोड (अँ)**  
कूट लिपि 409 3  
विधि सहिता 878 6  
**कोड़ना**  
गुड़ाई करना 548 44  
**कोड वर्ड (अँ)**  
कूट शब्द 823 4  
**कोड़ा**  
चाबुक 555 23  
**कोड़ा जमालशाही**  
कोड़ा जमालशाही 476 4 ⇨  
**कोडिसिल (अँ)**  
रिक्थ अनुपत्र 623 16  
**कोड़ी**  
बीस. समुदाय 687 14  
विशति लव प्रणाली 950 9  
**कोड़**  
कुष्ठ रोग 165 14  
**कोड़ी [कोड़िन]**  
कुष्ठ रोगी 165 15  
**कोण**  
अश 960 12  
आयाम 964 1  
कोण 970 1 ⇨  
कोना 607 6  
चक्र आठवाँ भाग 960 5  
दिशावकाश 29 22  
विचार कोण 330 2  
शनि ग्रह 7 8  
**कोण अंश**  
अश 960 12  
**कोण दिशा**  
उपदिशा 29 13  
चक्र आठवाँ भाग 960 5  
**कोण बिंदु**  
कोण बिंदु 968 4 ⇨  
**कोण मान**  
अश 960.12  
**कोणमान**  
कोणमान 970.9 ⇨  
**कोणमान (दे. चक्रांश माप)**  
कोणमान 970 9

## कोण माप

**कोण माप**  
अश 960 12  
चक्राश माप 960 1  
**कोण मापित्र (प्र)**  
डी 956 6  
**कोण मापी**  
डी 956 6  
**कोणयुक्त**  
कोणयुक्त 970 12 ⇨  
यक्र 974 16  
**कोणयुक्तता**  
यक्रता 974 1  
**कोणवादी**  
शिव 767 1  
**कोण शिला**  
नीर्वे पत्थर 607 13  
मेहराब शिखर पत्थर 611 30  
**कोणहीन**  
अवक्र 974 17  
**कोणहीनता**  
अवक्रता 974 2  
सीध 974 9  
**कोणाश**  
अश 960 12  
**कोणाश मापी**  
डी 956 6  
**कोणाकार पुत्रिया**  
कोणाकार पुत्रिया 674 7 ⇨  
**कोणीय**  
उपदिशा विषयक 29 34  
कोणयुक्त 970 12  
**कोतल**  
सवारी घोड़ा 127 37  
**कोतल घोड़ा**  
सवारी घोड़ा 127.37  
**कोतयाल**  
थानेदार 866 9  
नगर प्रशासक 891 7  
भुजगा 126 61  
**कोतयाली**  
थाना 866.8  
हवालात 868 12  
**कोतह**  
अल्प 942.13  
लघुकाय 154.28  
संकीर्ण 980 29  
संक्षिप्त 980 24  
**कोताह**  
सारांशित 449 30  
**कोताही**  
अभावप्रस्तता 627 2  
भूल 498 3  
**कोध**  
ग्रीन 167 5  
**कोधला**  
उदर 148.6  
**कोधली**  
नीली 672.8

**कोदंड**  
धनुष 926 8  
**कोदंडी**  
शिव 767 1  
**कोदों**  
अनाज सूची 187 6  
**कोद्रा**  
रागी 187 18  
**कोन**  
कोणाकार पुत्रिया 674 7  
कोन 977 10 ⇨  
**कोन (अँ)**  
कोन 977 10  
**कोना**  
कोण 970 1  
कोना 607 6 ⇨  
गृह 601 1  
नुकड़ 1064 8  
**कोना: आला**  
तिकोना आला 671 19  
**कोना कोना**  
घतुदिशत 29 36  
**कोनिया**  
तिकोना आला 671 19  
सुनार कुंकनी 85 24  
**कोने कोने में**  
घतुदिशत 29 36  
**कोप**  
क्रोध 373 1  
मान कलह 374 4  
रुष्टि 374 2  
**कोपना**  
क्रुद्ध होना 373 15  
मान करना 374 12  
**कोप भवन**  
मान गृह 374 5  
**कोपरा (अँ)**  
नारियल गिरी 112 6  
**कोपवान [कोपवती]**  
रुष्ट 374 17  
**कोपाइलट (अँ)**  
सहायक पाइलट 1081 3  
**कोपिता**  
मानवती 374 18  
**कोपिनी**  
मानवती 374 18  
**कोपी**  
क्रोधी 373 29  
**कोपीन**  
लेंगोट 587.8  
**कोप्रत**  
कष्ट 392 1  
दुःख 391 1  
परेशानी 519 4  
**कोप्रता**  
कोप्रता 200 16 ⇨  
**कोबरा**  
कोबरा 123 19 ⇨

**कोबरा (अँ)**  
कोबरा 123 19  
सर्प सूची 123 16  
**कोबा**  
मुंगरी 559 30  
**कोबी**  
फूल गोभी 189 17  
**कोमल**  
कोमल 269 18 ⇨  
कोमल स्वभावी 837 11  
कोमलहृदय 834 15  
कोमलाग 159 9  
दयालु 834 12  
नम्र व्यवहारी 830 8  
भायुक 358 26  
मधुर धनिक 294 27  
श्रुतिप्रिय 294 25  
सवेदनशील 393 18  
**कोमल कांत पदायली**  
काव्य 451 7  
**कोमलकाय**  
कोमलांग 159 9  
**कोमलकायता**  
कोमलागता 159 1  
**कोमलधित**  
कोमलहृदय 834 15  
**कोमल छोटा फल**  
बतिया 116 2  
**कोमलता**  
काव्य गुण सूची 453 4  
कोमलता 269 4 ⇨  
कोमल स्वभाव 837 2  
कोमलागता 159 1  
नम्र व्यवहार 830 3  
भायुकता 358.16  
मुण्मयता 545 19  
**कोमलता (दे.)**  
सवेदनशीलता 393 2  
**कोमल पंख**  
कोमल पंख 151 4 ⇨  
**कोमलमनस्क**  
भायुक 358 26  
सवेदनशील 393.18  
**कोमलमनस्कता**  
भायुकता 358 16  
सवेदनशीलता 393.2  
**कोमल स्वभाव**  
कोमल स्वभाव 837.2 ⇨  
**कोमल स्वभावी**  
कोमल स्वभावी 837.11 ⇨  
**कोमलहृदय**  
कोमलहृदय 834 15 ⇨  
**कोमल हृदयता**  
कोमल हृदयता 834.6 ⇨  
**कोमल होना**  
कोमल होना 269.10 ⇨  
**कोमलांग**  
कोमलांग 159.9 ⇨

**कोमलांगता**  
कोमलांगता 159 1 ⇨  
**कोमलांगना**  
कोमलांगिनी 159 10  
**कोमलांगिनी**  
कोमलांगिनी 159 10 ⇨  
**कोमलांगी**  
कोमलांगिनी 159 10  
**कोमला**  
कोमलांगिनी 159 10  
**कोमलास्थि**  
उपास्थि 133 2  
**कोयल**  
कोयल 126 21 ⇨  
गायक पक्षी सूची 126 9  
**कोयल: बोली**  
कुहुक 298 11  
**कोयला**  
कोयला 110 6 ⇨  
**कोयला इंजन**  
कोयला इंजन 1078 11  
**कोयला इंजन**  
कोयला इंजन 1078 11 ⇨  
**कोयला कोठरी**  
कोयला कोठरी 670 11 ⇨  
**कोयला गाड़ी**  
कोयला गाड़ी 1078 12 ⇨  
रेलगाड़ी 1071 66  
**कोयलिया**  
कोयल 126 21  
**कोया**  
कोया 242 2 ⇨  
नेत्र कोर 141 4  
पूनी 568 7  
रेशम कोया 242 3  
**कोरंडम**  
कोरंडम 92.7 ⇨  
**कोरंडम (अँ)**  
कोरंडम 92 7  
**कोर**  
कोर 932 22 ⇨  
कोर 1000.2 ⇨  
धार 270 7  
नेत्र कोर 141 4  
नोक 270 8  
परिधि 972 4  
**कोर (अँ)**  
कोर 932.22  
भू क्रोड़ 9.11  
**कोरट (बोलचाल)**  
न्यायालय 874 5  
**कोरनिश**  
कोरनिश 1060.6 ⇨  
**कोरम**  
कोरम 941.2 ⇨  
**कोरम (अँ)**  
कोरम 941.2

- क्रोरमा**  
क्रोरमा 206 37 ⇨  
**क्रोरमा पुलाव**  
बिरियानी 202.4  
**कोरल (अँ)**  
प्रवाल 97 4  
मूंगा 97 1  
**कोरल आइलैंड (अँ)**  
प्रवाल द्वीप 97 5  
**कोरल रीफ (अँ)**  
प्रवाल भित्ति 97 7  
**कोरस (अँ)**  
अभिवक्ता गण 467 4  
गायक दल 460 19  
समूह गायक 460 34  
समूह गायन 460 33  
समूह गीत 451 27  
**कोरस सिंगर (अँ)**  
समूह गायक 460 34  
**कोरा**  
कोरा वस्त्र 579 2  
**कोरा [कोरी]**  
अनुपभुक्त 525 6  
अभुक्त 364 9  
अमिश्रित 1008 30  
अशिक्षित 321 42  
असफल 513 4  
निरक्षर 320 5  
प्रवर्धित 635 25  
मात्र 946 19  
रिक्त 1005 7  
विशुद्ध 219 7  
**कोरा आदर्श**  
अव्यावहारिक आदर्श 829 6  
**कोरा जवाब**  
स्पष्ट अस्वीकृति 338 2  
स्पष्ट उत्तर 334 4  
**कोरापन**  
अभुक्तता 364 2  
विशुद्धता 219 2  
**कोरा वस्त्र**  
कोरा वस्त्र 579.2 ⇨  
**कोरा सिद्धांत**  
अव्यावहारिक आदर्श 829 6  
**कोरा होना**  
उपभुक्त न होना 525.4  
**कोरियोग्राफर (अँ)**  
नृत्य निर्देशक 462 17  
नृत्य लिपिकार 462 19  
**कोरियोग्राफी (अँ)**  
नृत्य निर्देशन 462.16  
**कोरियोग्राफी (अँ)**  
नृत्य लिपि 462.18  
**कोरी**  
बुनकर जाति सूची 576 6  
**कोरी आरा**  
मिथ्या सांत्वना 393.6
- कोरी कमीन**  
अकुलीन जन 728 10  
**कोर्ट (अँ)**  
ऑगन 604 4  
खेल कोर्ट 482 7  
न्यायालय 874 5  
**कोर्ट पीस (अँ)**  
कोर्ट पीस 478 11  
**कोर्ट मार्शल (अँ)**  
सेना न्यायालय 874 8  
**कोर्टशिप (अँ)**  
रोमांस 368 9  
**कोर्टेज (अँ)**  
भार क्षमता सूची 966 6  
**कोर्निया**  
कोर्निया 141 8 ⇨  
**कोर्स (अँ)**  
दौड़ मार्ग 1063 26  
पाठ्यक्रम 322 1  
**कोर्स बुक (अँ)**  
पाठ्य पुस्तक 322.2  
**कोलंबो**  
श्रीलंका राजधानी 27 18  
**कोल**  
गोदी 721 7  
बेड़ा 1072 51  
मिर्च 278 3  
सूअर 127 81  
**कोल (अँ)**  
कोयला 110 6  
**कोलक**  
काली मिर्च 278 4  
शीतल बीनी 281 31  
**कोलकी**  
कोलची 614 6  
**कोल कोठरी**  
कोयला कोठरी 670 11  
**कोलची**  
कोयला कोठरी 670.11  
कोलची 614 6 ⇨  
बंकर 594 15  
**कोलट्टम (केरल)**  
डाडिया रास 462 10  
**कोलतार: सड़क**  
कोलतार: सड़क 1063.43 ⇨  
**कोलन (अँ) (:)**  
विवरण विह्न कोलन 425 39  
**कोलन डेश (अँ) (:)**  
विवरण विह्न कोलन डेश 425 40  
**कोलयल्ली**  
गज पिप्यली 281 14  
**कोलछुय**  
बड़ा चम्मच 681 18  
**कोला**  
कोला 208 9 ⇨  
**कोला (अँ)**  
कोला 208.9
- कोलाहल**  
कोलाहल 294.8 ⇨  
**कोलाहल करना**  
कोलाहल करना 294.18 ⇨  
**कोलाहलकारी**  
कोलाहलकारी 294.31 ⇨  
**कोलाहलपूर्ण**  
कोलाहलपूर्ण 294.30 ⇨  
**कोलाहलपूर्णता: उपमान सूची**  
कोलाहलपूर्णता उपमान सूची 294.33 ⇨  
**कोलाहलहीन**  
ध्वनिहीन 295.4  
**कोलाहलहीनता**  
ध्वनिहीनता 295.1  
**कोलिया**  
गली 1063 49  
**कोली**  
नाविक 1080 21  
**कोलेंदा**  
महुआ 190 31  
**कोल्ड ड्रिंक (अँ)**  
शीतल पेय 208 3  
**कोल्ड स्टोरेज**  
कोल्ड स्टोरेज 670 19 ⇨  
**कोल्ड स्टोरेज (अँ)**  
कोल्ड स्टोरेज 670 19  
**कोल्हाड़**  
खंडसार 280.26  
**कोल्हू**  
कोल्हू 83.7 ⇨  
**कोल्हू चक्रण**  
धुरी परियकरण 1033 7  
**कोथिट**  
प्रवीण 303.22  
विद्वान 319 8  
विशेषज्ञ 305 36  
**कोश**  
अंडा 242.1  
अंडा शल्क 116 7  
अनाज: बाल 113 8  
आत्मा: आवरण 763.6  
कथय 921.2  
कोया 242 2  
कोश 630.1 ⇨  
कोशागार 630.3  
पिधान 675 3  
भंडार 670 3  
न्याय 924.12  
शब्दकोश 446.12  
संग्रहालय 669.8  
**कोश कर्म**  
कोशकारिता 446 15  
**कोशकार**  
कोशकार 446.16 ⇨  
**कोशकारिता**  
कोशकारिता 446.15 ⇨  
**कोस कीट**  
रेशम कीट 122.40
- कोशग्रंथ**  
अनुस्वार 410 10  
शब्दकोश 446 12  
**कोशग्रंथ**  
सारस 126.74  
**कोश नायक**  
कुबेर 779 4  
**कोशपाल**  
कोशाध्यक्ष 630 12  
**कोश पुस्तक**  
कोश पुस्तक 446.9 ⇨  
**कोश भंडार**  
कोशागार 630 3  
**कोश रचना**  
कोशकारिता 446 15  
**कोशल**  
राम. राज्य 770.9  
**कोशल कुमारी**  
कौशल्य 770 25  
**कोशला**  
कुश राज्य 770 22  
**कोशवासी जीव**  
कवच वासी जीव 124 13  
**कोशस्थ**  
कवच वासी जीव 124 13  
**कोशस्थ तितली**  
तितली प्यूपा 242.5  
**कोशागार**  
कोशागार 630 3 ⇨  
भंडार घर 670 5  
कोशागार (दे.)  
संग्रहालय 669 8  
**कोशातकी**  
तोरी 189.23  
**कोशाधिकारी**  
कोशाध्यक्ष 630 12  
**कोशाध्यक्ष**  
कोशाध्यक्ष 630.12 ⇨  
**कोशालय**  
कोशागार 630 3  
**कोशिका**  
कोशिका 129.3 ⇨  
गिलास 684.9  
प्याला 684.12  
**कोशिका क्रिया: अंत**  
कायिक मृत्यु 249.2  
**कोशित कीट**  
प्यूपा 242.4  
**कोशिरा**  
प्रयतन 489.1  
**कोशी**  
प्यूपा 242.4  
**कोष**  
कवच 921.2  
कोश 630.1  
**कोष्ठ**  
उदर 148.6  
कमर 614.1

## कोष्ठक

कुठला 670 9  
गोटी घर 479 2  
घून घबारा 670 20  
डिब्बा 676 1  
झाङ्ग रुम 614 16  
धारण क्षमता 966 4  
परकोटा 604 11  
पिधान 675 3  
बड़ा कमरा 614 2  
बृहदांत्र 152 5  
भंडार घर 670 5  
भुजाकृति 969 2  
लेखा पुस्तक खाना 632 9

## कोष्ठक

कोष्ठक चिह्न 425 43  
गोटी घर 479 2  
भुजाकृति 969 2  
लेखा पुस्तक खाना 632 9

## कोष्ठक चिह्न

कोष्ठक चिह्न 425 43 ⇨

## कोष्ठक चिह्न ( )

कोष्ठक चिह्न 425 43

## कोष्ठपाल

कोशाध्यक्ष 630 12

## कोष्ठबद्धता

कोष्ठबद्धता 163.30 ⇨

## कोष्ठागार

अनाज गोदाम 670 18

भंडार घर 670 5

## कोष्ठालय

भंडार घर 670 5

## कोष्ठायली

स्वीट 602 29

## कोष्ठी

जन्म कुडली 261 7

## कोष्ण

अल्प उष्ण 104 21

## कोस

आक्रोश 373 3

कोस 959 21 ⇨

## कोसः 5

मील 959 25

## कोसना

अकल्याण कामना करना 711 7

कोसना 373.17 ⇨

गाली देना 433 6

## कोसल

दशरथः राज्य 770 37

राम राज्य 770 9

## कोसला

कुशः राज्य 770 22

## कोसली

राग रागिनी सूची 457 24

## कोस्टर (अं)

तट पीत 1072 28

नीका सूची 1072 3

## कोहका

कहू 189 10

## कोह

पर्वत 16 3

## कोह आतिश

ज्वालामुखी पर्वत 9 18

## कोहनी

कुहनी 149 7

टोडा '611 23

## कोहनी-कंधा: हड्डी

बॉह अस्थि 133 17

## कोहनूर

कोहनूर 96 29 ⇨

## कोहबर

कोहबर 800 7 ⇨

## कोहरा

कोहरा 90 10 ⇨

तुषार पात 90 9

## कोहराम

आर्तनाद 386 3

## कोहसार

पर्वत 16 3

## कोहान

सांड बैल कूब 147 10

## कोहिमा

नागालैंड राजधानी 28 45

## कोथ

चुभन 270 1

## कोथा

ईख नीरस ऊपरी भाग 526 4

## कोडिन्य

ऋषि मुनि सूची 789 17

## कोतिय

अर्जुन 771 36

## कोंध

कोंध 287.20 ⇨

मेघ विद्युत 55 9

## कोंध

सहसा कल्पना 308 3

सादृश्य आभास 309 4

## कोंधना

कल्पना मे आना 308 11

## कोंधना

कोंधना 287.28 ⇨

## कोशास (अं)

घेतन मन 352 2

## कोशीस (अं)

अतरात्मा 351 4

## कोसल (अं)

राजदूत 443.10

## कोसिल (अं)

समिति 692 20

## कोसिलर (अं)

परिषद सदस्य 889 8

## कोस्टिदुरेंसी (अं)

निर्वाचन क्षेत्र 888 14

## कोस्टिदूरान (अं)

सविधान 878 16

## कोस्टिदूरान असीबली (अं)

सविधान परिषद 889 7

## कोस्टेबल (अं)

पुलिस कर्मी 866.3

## कोआ

काकल 145 10

कोआ 126.22 ⇨

## कोआ: बोली

काँव काँव 298 9

## कोआ रोर

कोलाहल 294 8

तकरार 708 7

## कोइल (अं)

कुडली 973 8

## कोकपिट

कोकपिट 1074 20 ⇨

## कोकपिट (अं)

कोकपिट 1074 20

## कोक्सस्वेन (अं)

कर्णधार 1080 19

## कोग

रोका 675 14

## कोग (अं)

अपिधानित 675 19

गरारी दाँता 1077 38

## कोघ (अं)

सोफ़ा 595 30

## कोघुमार योग

चौसठ कला सूची 397 4

## कोजये (अं)

बाँध पथ 1066 11

## कोटन (अं)

कपास वस्त्र 579 11

रुई 568.5

## कोटन (अं)

सूती 568 15

## कोटन क्लाथ (अं)

कपास वस्त्र 579 11

## कोटवी

नग्न स्त्री 590 3

## कोटिक

बेईमान 816 5

## कोटिलिक

लोहार 565 15

## कोटिल्य

कुटिलता 818 3

## कोटुविक

कुटुंबीय 726 16

सामूहिक 690 13

## कोड

कोड 125.4 ⇨

## कोडक्रिस (अं)

कोड 125 4

## कोका

अलाय 109.3

राग रागिनी सूची 457 24

## कोकियाला

सर्प सूची 123.16

## कोकिल्ला

जलपक्षी सूची 126 7

## कोड़ी

कोड़ी 124 15 ⇨

कोड़ी 479.26 ⇨

कोड़ी 629 10 ⇨

धन 628 1

नेत्र पुतली 141 5

बीस उपमान सूची 948 56

बीसः समुदाय 687 14

मनका 228 48

## कोड़ी (दे.)

कोड़ी 479 26

## कोड़ी: अंटा

कोड़ी अंटा 479.27 ⇨

## कोड़ी: अंटा बंधु

कोड़ी अंटा बंधु 479 28 ⇨

## कोड़ी का

नगण्य 853 10

## कोड़ी के मोल

अल्पमूल्यतः 664 39

## कोड़ी: खेल

अक्ष द्यूत 481 3

## कोड़ी: चित्ती

कोड़ी. चित्ती 479 29 ⇨

## कोड़ी न होना

कगाल होना 627 12

## कोड़ी भर

अत्यल्पतः 942 24

## कोणप

असुर दानव दैत्य राक्षस 783 2

पिशाच 786 8

शव भक्षी 205 8

## कोणपी

राक्षस स्त्री 784 2

## कोणुक

आनंद मगल 382.3

कँगना खुलाई 800 5

क्रीडा 469 4

जिज्ञासा 305 22

मनोरजक दृश्य 312 7

विनोद 385.1

## कोणुकपूर्ण

विलक्षण 312.16

## कोणुकप्रिय

क्रीडाप्रिय 469.16

मनोरंजनप्रिय 469.13

## कोणुक भंडार

अजायब घर 669 16

## कोणुकागार

अजायब घर 669 16

## कोणुकालय

अजायब घर 669.16

## कोणुकी

क्रीडाप्रिय 469.16

मनोरंजनप्रिय 469.13

## कोल्स

ऋषि मुनि सूची 789 17

## कोन

कोन 316.1 ⇨

**कौन कौन**  
अनुक अनुक 316 23  
**कौन क्या कहाँ**  
डायरेक्टरी 993 12  
**कौन जाने**  
अपूर्ण संभावना उक्ति सूची 68 22  
**कौन प्रकार का**  
केसा 317.29  
**कौनिंग टावर (अँ)**  
परिचालन गृह 1073 30  
**कौप**  
कूप जल 88 8  
**कौपर (अँ)**  
लौहा 94 8  
**कौपरस (अँ)**  
पीतल कसीस 214 9  
**कौपीन**  
गुप्ताग 152 1  
पुरुष जननेद्रिय 152 10  
**कौप्टर (अँ)**  
हेलिकौप्टर 1074 6  
**कौप्य**  
कूप जल 88 8  
**कौफ़ी (अँ)**  
काफ़ी 208 20  
**कौफ़ी ब्रेक (अँ)**  
जलपान अवकाश 494 6  
**क्रौम**  
जाति 730 1  
नृजाति 730 14  
राष्ट्र 881 1  
**कौमनवेत्थ (अँ)**  
राज्य समूह 881 9  
**कौमरेड**  
सहयात्री 1088.2  
**कौमरेड (अँ) (कम्प्युनिस्ट)**  
पुरुष उपाधि सूची 856.2  
**कौमर्स (अँ)**  
व्यापार 657.1  
**कौमा (अँ)**  
अल्प विराम 425.34  
**कौमार**  
स्कंदीय 773 56  
**कौमारचारी**  
ब्रह्मचारी 234 4  
**कौमारिक**  
स्कंदीय 773 56  
**कौमारी**  
कुमारी 774.27  
**कौमारी 774.32 ⇨**  
देवी: शक्ति सूची 774.50  
सप्त मातृका सूची 774.70  
**कौमार्य**  
**कौमार्य 234.11 ⇨**  
ब्रह्मचर्य 234.3  
**कौमार्य पालन**  
ब्रह्मचर्य 234.3

**कौमार्ययुक्त**  
**कौमार्ययुक्त 234.15 ⇨**  
**कौमार्यवती**  
ब्रह्मचारिणी 234 5  
**कौमार्य व्रत**  
आजीवन ब्रह्मचर्य 234.7  
**कौमार्य हरण**  
पेशाच विवाह 799 25  
**कौमिक्स**  
**कौमिक्स 450.25 ⇨**  
**कौमिक्स (अँ)**  
कौमिक्स 450.25  
**क्रौमियत**  
नागरिकता 883 1  
राष्ट्रीयता 881 2  
**क्रौमी**  
जातीय 730 16  
राष्ट्रीय 881 29  
**कौमुद**  
कार्तिक 43 14  
**कौमुदी**  
उत्सव 56.1  
कुमुद 14 9  
चौदनी 287 6  
टीका 427 10  
दीवाली 57 15  
व्याख्या 427 15  
शरद पूर्णिमा 57 26  
**कौमुदीचार**  
शरद पूर्णिमा 57.26  
**कौमुदी वृक्ष**  
झाड़ फ़ानूस 285 22  
दीप स्तंभ 285 19  
**कौमेडियन**  
हास्य अभिनेता 464 16  
**कौमेडी**  
**कौमेडी 463 4 ⇨**  
**कौमेडी (अँ)**  
कौमेडी 463.4  
हास्य अभिनय 464 15  
हास्य रस 455 23  
**कौमेडी (बोलचाल) (वर्तमान)**  
हास्य नाटक 463 5  
**कौमोदकी**  
विष्णु: गदा 768 12  
**कौयर**  
**कौयर 569.6 ⇨**  
**कौर**  
कुमारी 234 17  
ग्रास 181.26  
स्त्री उपाधि सूची 856.4  
**कौरव**  
**कौरव 771.26 ⇨**  
सान. पत्थर 559.35  
**कौरव पांडव**  
शत्रुता. उपमान सूची 706.22  
**कौरव राज्य: बंजी**  
विदुर 771.87

**कौरवीयन**  
धुवीकरण 885.12  
**कौरवीयित**  
धुवीकृत 885 41  
**कौरिडोर (अँ)**  
सकीर्ण मार्ग 1063.44  
**कौरुगेटिड**  
**कौरुगेटिड 974.22 ⇨**  
**कौरुगेटिड (अँ)**  
कौरुगेटिड 974.22  
**कौरुगेशन**  
**कौरुगेशन 974.8 ⇨**  
**कौरुगेशन (अँ)**  
कौरुगेशन 974 8  
**कौरिसपीईट (अँ)**  
संवाददाता 445 22  
**कौक (अँ)**  
अपिधानित 675 19  
**कौक ओपनर**  
**कौक ओपनर 675.12 ⇨**  
**कौक ओपनर (अँ)**  
कौक ओपनर 675 12  
**कौकस्कू**  
**कौकस्कू 1016 22 ⇨**  
**कौकस्कू (अँ)**  
कौकस्कू 1016 22  
**कौड (अँ)**  
घापकर्ण 972 10  
सगीत स्वर 459 1  
**कौड (संक्षिप्त)**  
कार्डराय 580 6  
**कौडियल**  
**कौडियल 176.14 ⇨**  
**कौडियल (अँ)**  
कौडियल 176 14  
**कौनर स्टीन (अँ)**  
मेहराब. शिखर पत्थर 611 30  
**कौल**  
आंदोलन नारा 902 9  
**क्रौल**  
क्रव्याली 452 19  
**कौल**  
ग्रास 181 26  
**क्रौल**  
प्रतिज्ञा 339 17  
वचन 339 15  
**कौल**  
वाममार्गी 737 47  
संकल्प 500 1  
**कौल [कौला]**  
उच्च कुलीन 728 15  
**कौलाई**  
नारंगी 289.48  
**कौलम (अँ)**  
स्थायी स्तंभ 447 16  
**कौलमिस्ट (अँ)**  
स्तंभ लेखक 445 23

**कौलर (अँ)**  
गरेबान कालर 585 67  
**कौलाधार**  
वाममार्ग 737 46  
**कौलिक**  
कपड़ा बुनकर 576 5  
कुलीय 726 17  
वाममार्गी 737 47  
**कौलीन**  
कुलीय 726.17  
गुप्ताग 152 1  
वाममार्गी 737 47  
**कौली भरना**  
आलिंगन करना 237 12  
**कौलियक**  
उच्च कुलीन 728 15  
**कौलेस्टरील**  
**कौलेस्टरील 132 7 ⇨**  
**कौलेस्टरील (अँ)**  
कौलेस्टरील 132 7  
**कौलोइड**  
**कौलोइड 1008 11 ⇨**  
**कौलोइड (अँ)**  
कौलोइड 1008 11  
**कौलोइड अवस्था**  
कल्किद अवस्था 79 7  
**कौलोटाइप (अँ)**  
फ़ोटोग्राफ़ी प्रारंभिक विधि सूची 405 5  
**कौल्य**  
कुलीय 726 17  
**क्रौवाली**  
क्रव्याली 452 19  
**कौयिंदी**  
कपड़ा बुनकर 576 5  
**कौवेर्नेट (अँ)**  
प्रसविदा 339 4  
**कौशल**  
प्रवीणता 303 8  
**कौशालिक**  
रिश्त 865.9  
**कौशाली**  
कुशल प्रश्न 710 7  
**कौशालेय**  
राम 770 1  
**कौशल्या**  
**कौशल्या 770.25 ⇨**  
दशरथ पत्नी सूची 770.34  
राम: माता 770 3  
**कौशल्या कुमार**  
राम 770 1  
**कौशांबर**  
रेशमी वस्त्र 579 10  
**कौशिक**  
इंद्र 773.5  
उल्सू 126.14  
कौशाध्यक्ष 830.12  
नेचला 127 69  
मज्जा 132.3

## कौशिक फल

रेशमी 568 17  
विश्वामित्र 789 20  
शिव 767 1  
सँपेरा 473 25

## कौशिक फल

नारियल 13.11

## कौशिका

कटोरा 683 1  
पान पात्र 684 1

## कौशिकामुध

इद्र वज्र 928 8

## कौशिकारि

कौआ 126 22

## कौशिकी

दुर्गा 776 7  
राग रागिनी सूची 457 24

## कौशीतकी उपनिषद्

उपनिषद् सूची 740.13

## कौशीलक

कुशल प्रश्न कर्ता 710 25

## कौशीलय

अभिनय व्यवसाय 464 3

## कौशेय

रेशमी 568 17  
रेशमी वस्त्र 579.10  
रेशमी साड़ी 586 17

## कौशीतकी

ऋषि स्त्री सूची 789 25

## कौसल्या

कौशल्या 770 25

## कौसल्या नंदन

राम 770 1

## कौसवर्ध पत्राल (अं)

वर्ग पहेली 333 15

## कौसिला

कौशल्या 770 25

## कौशीद

व्याजजीयी 633 33

## कौशीघ

व्याज जीविता 633.5

## कौसुम

पुष्पयुक्त 115 17

## कौस्टिग (अं)

लागत आकलन 644.11

## कौस्टुम (अं)

नाट्य देश 464 38

देश 589 1

## कौस्तुभ

कौस्तुभ मणि 96 16

विष्णुः मणि 768 11

## कौस्तुभ मणि

कौस्तुभ मणि 96.16 ⇨

## कौस्तुभ सङ्ग

विष्णु 768.1

## कौस्तुभ हृदय

विष्णु 768 1

## कौस्मोन्न (अं)

अंतरिक्ष पत्तन 1089.22

## कौस्मोनीट (अं)

अतरिक्ष यात्री 1087 24

## कौस्मोनीटिकल (अं)

अतरिक्ष यात्रीय 1087 38

## क्या

कितना [कितनी] 946 11

क्या 316.2 ⇨

## क्या पता

अपूर्ण सभावना उक्ति सूची 68 22

## क्या बात है

शाबाशी उद्गार सूची 841 40

## क्या मालूम

अपूर्ण सभावना उक्ति सूची 68 22

## क्यारी

आरम्भिक अवस्था सूची 994 23

क्यारी 551.16 ⇨

## क्यारी कर्म

क्यारी कर्म 548 6 ⇨

## क्यारी: मध्यस्थ मार्ग

क्यारी मध्यस्थ मार्ग 551.17 ⇨

## क्यू

क्यू 465 9 ⇨

क्यू 991 10 ⇨

## क्यू (अं)

क्यू 465 9

पक्ति 691 4

विलियर्ड छड़ी 479 31

## क्यू क्रम

क्यू क्रम 991 9 ⇨

## क्यूब (अं)

घनाकृति 977 17

## क्यूबद्द

क्यूबद्द 991 25 ⇨

## क्यूबद्दतः

क्यूबद्दत 991 32 ⇨

## क्यूबिक (अं)

घनाकार 977 25

## क्यूबिट फ्रंट प्रति सैकंड

जल प्रवाह माप 958.31

## क्यू में

क्यूबद्दत 991.32

## क्यूरेट (अं)

ईसाई धर्मिकविषय समष्टि सदस्य 744.28

## क्यूरेटर (अं)

संग्रहालय अध्यक्ष 669 9

## क्यू से

क्यूबद्दत 991.32

## क्यूसेक (अं)

जल प्रवाह माप 958 31

## क्यों

क्यों 507.9 ⇨

## क्योंकर

कैसे 514 20

क्यों 507 9

## क्रंदन

सुनीती 917.1

नर बिल्ली 127.57

रुदन 386 1

विलाप 386 9

## क्रंदन करना

आर्तनाद करना 386 17

## क्रकच

आरी 559 3

ददाना 970 11

## क्रकचयत

ददानेदार 970 14

## क्रकर

केकड़ा 124 14

## क्रतु

आषाढ 43 10

ऋषि मुनि सूची 789 17

ब्रह्मा पुत्र सूची 766 10

यज्ञ 753 1

विश्वेदेय सूची 777 10

विष्णु 768 1

सप्तर्षि मंडल ऋषि सूची 3 11

सप्तर्षि महाभारत 789 13

## क्रतु द्वेषी

पिशाच 786 8

राक्षस 784 1

## क्रतुर्ध्वंसी

शिव 767 1

## क्रनुपति

यज्ञपति 753 4

## क्रनुपशु

अश्वमेध घोड़ा 754 14

## क्रनु पुरुष

विष्णु 768 1

## क्रनुराज

अश्वमेध 754 13

## क्रथन

राक्षस सूची 784 4

वध 251.3

## क्रम

आरंभ 994 3

आवृत्ति 71 1

एक पद 1083.2

क्रम 991.1 ⇨

तारतम्य 1049 3

रुटीन 514.6

संदर्भ 437.3

## क्रमघय

क्रम परिवर्तन 992.3

## क्रमण

क्रमबद्दन 991 16

पदन्यास 1083 3

## क्रमण करना

क्रमबद्द करना 991 19

## क्रमणिका

सूची 993 1

## क्रमतः

नियमिततः 71.23

## क्रम परिवर्तन

क्रम परिवर्तन 992.3 ⇨

क्रम परिवर्तन (⇨)

प्रतिवर्तन 532 9

## क्रमबद्द

क्रमिक 991.21

व्यवस्थित 893 13

## क्रमबद्द करना

क्रमबद्द करना 991.19 ⇨

## क्रमबद्द कर्ता

क्रमबद्द कर्ता 991.27 ⇨

## क्रमबद्द तर्कण

अनुक्रम तर्कण 325.11

## क्रमबद्दता

क्रमिकता 991 2

## क्रमबद्दन

क्रमबद्दन 991 16 ⇨

## क्रमबद्द समूह

सेना व्यूह 907 8

## क्रमबद्द स्वर अभ्यास

सरगम अभ्यास 460.12

## क्रमबद्द होना

क्रमबद्द होना 991 18 ⇨

## क्रम भंग

क्रम विस्थापना 992 2

## क्रम विकास

उद्विकास 534 7

## क्रम विन्यासकीय

कोटिकरणाय 936.12

## क्रम विन्यासन

कोटिकरण 936 5

## क्रम विस्थापक

क्रम विस्थापक 992 6 ⇨

## क्रम विस्थापना

क्रम विस्थापना 992.2 ⇨

## क्रमशः

क्रमशः 991.28 ⇨

धारायाहिततः 447 27

पद प्रति पद 1083.29

## क्रम संख्या

क्रम संख्या 991.13 ⇨

## क्रम सूचक संख्या

पूरण संख्या 949.10

## क्रम से लगना

क्रमबद्द होना 991 18

## क्रम स्थापक

क्रमबद्द कर्ता 991 27

## क्रम स्थापना

क्रमबद्दन 991 16

## क्रमहीन

अनियमित 71 11

क्रमहीन 992.5 ⇨

## क्रमहीनतः

अक्रमतः (घणित) 1009.23

क्रमहीनतः 992 7 ⇨

## क्रमहीनता

अनियमितता 71 3

क्रमहीनता 992 1 ⇨

## क्रमहीन होना

क्रमहीन होना 992.4 ⇨

## क्रमांक

क्रम संख्या 991 13



**क्रमांक (जैसे: 1, 2, 3...)**  
 क्रम संख्या 991.13  
**क्रमांकन**  
 क्रमांकन 991.14 ⇨  
**क्रमांकन करना**  
 क्रमांकन करना 991.17 ⇨  
**क्रमांकन यंत्र**  
 क्रमांकन यंत्र 991.15 ⇨  
**क्रमांकित**  
 क्रमांकित 991.26 ⇨  
**क्रमांकित (प्र)**  
 क्रमांकन यंत्र 991.15  
**क्रमागत**  
 आनुवंशिक 72/39  
 क्रमिक 991.21  
 पारंपरिक 795.13  
**क्रमागतता**  
 क्रमिकता 991.2  
**क्रमानुकूल**  
 क्रमिक 991.21  
**क्रमानुकूलता**  
 क्रमिकता 991.2  
**क्रमानुसार**  
 क्रमिक 991.21  
**क्रमानुसारतः**  
 क्रमशः 991.28  
**क्रमानुसारता**  
 क्रमिकता 991.2  
**क्रमिक**  
 क्रमिक 991.21 ⇨  
 क्रमीय 991.20  
 नियमित 71.10  
 पारंपरिक 795.13  
 श्रेणी संख्यक 949.31  
**क्रमिकतः**  
 क्रमशः 991.28  
**क्रमिकता**  
 क्रमिकता 991.2 ⇨  
 नियमितता 71.2  
**क्रमिक परिवर्तन**  
 क्रमिक परिवर्तन 532.7 ⇨  
**क्रमिक संख्या**  
 श्रेणी संख्या 949.15  
**क्रमित**  
 कोटिकृत 936.13  
 क्रमिक 991.21  
**क्रमित होना**  
 क्रमबद्ध होना 991.18  
**क्रमीय**  
 कोटिकरणाय 936.12  
 क्रमीय 991.20 ⇨  
**क्रमेण**  
 क्रमशः 991.28  
**क्रमेतरता**  
 क्रमहीनता 992.1  
**क्रमेल**  
 ऊँट 127.27

**क्रय**  
 क्रय 660.1 ⇨  
**क्रय आरक्षण**  
 क्रय आरक्षण 660.11 ⇨  
**क्रय करना**  
 क्रय करना 660.14 ⇨  
**क्रयण**  
 क्रयण 660.2 ⇨  
**क्रय विक्रय**  
 विपणन 658.1  
 व्यापार 657.1  
**क्रय विक्रय करना**  
 विपणन करना 658.10  
**क्रयविक्रयिक**  
 व्यापारी 657.2  
**क्रयविक्रयी**  
 व्यापारी 657.2  
**क्रयी**  
 क्रेता 660.3  
**क्रय्याद**  
 असुर दानव दैत्य राक्षस 783.2  
 पिशाच 786.8  
 राव भक्षी 205.8  
 सामिषाहारी 205.4  
**क्रशर (अँ)**  
 कोल्हू 83.7  
**क्रस्ट (अँ)**  
 भू पर्यटी 9.9  
**क्रांत**  
 आक्रांत 914.18  
 पराजित 913.5  
 सक्रमित 1091.14  
**क्रांतदर्शी**  
 त्रिकालज्ञ 261.44  
**क्रांतयुत**  
 पिंडकक्षा 4.1  
**क्रांति**  
 क्रांति 903.5 ⇨  
 पूर्ण परिवर्तन 532.8  
**क्रांति कक्षा**  
 सूर्यक्रांति, वृत्त 5.3  
**क्रांतिकर**  
 क्रांति कर्ता 903.20  
**क्रांति करना**  
 क्रांति करना 903.15 ⇨  
**क्रांति कर्ता**  
 क्रांति कर्ता 903.20 ⇨  
**क्रांतिकारी**  
 क्रांति कर्ता 903.20  
 क्रांतिपूर्ण 903.19  
 नाटकीय 466.19  
 पूर्ण परिवर्तनकारी 532.20  
**क्रांतिकारी आंदोलन**  
 क्रांतिकारी आंदोलन 904.5 ⇨  
**क्रांतिकारी परिवर्तन**  
 पूर्ण परिवर्तन 532.8  
**क्रांति ज्वाला**  
 क्रांति ज्वाला 903.7 ⇨

**क्रांति नेता**  
 क्रांति नेता 903.6 ⇨  
**क्रांतिपात**  
 विधुय 5.22  
**क्रांतिपूर्ण**  
 क्रांतिपूर्ण 903.19 ⇨  
**क्रांतियाद**  
 साम्यवाद 884.19  
**क्रांति विरोधी क्रांति**  
 प्रतिक्रांति 903.9  
**क्रांति विस्फोट**  
 क्रांति विस्फोट 903.8 ⇨  
**क्रांतियीर**  
 क्रांति नेता 903.6  
**क्रांति वृत्त**  
 सूर्यक्रांति वृत्त 5.13  
**क्रांति सेनानी**  
 क्रांति नेता 903.6  
**क्रांतीय**  
 क्रांतिपूर्ण 903.19  
**क्राइस्ट (अँ)**  
 ईसा 791.8  
**क्राकथिक**  
 आराकश 564.2  
**क्राइट (अँ)**  
 हस्त शिल्प 557.9  
**क्राम**  
 क्रमीय 991.20  
**क्रामिक**  
 क्रमीय 991.20  
**क्रिकेट**  
 क्रिकेट 477.2 ⇨  
**क्रिकेट (अँ)**  
 क्रिकेट 477.2  
**क्रिकेट क्रीड़ा**  
 क्रिकेट क्रीड़ा 482.13 ⇨  
**क्रिकेट क्रीड (अँ)**  
 क्रिकेट मैदान 482.12  
**क्रिकेट मैदान**  
 क्रिकेट मैदान 482.12 ⇨  
**क्रिकेट विकट**  
 क्रिकेट विकट 482.14 ⇨  
**क्रियण**  
 संचलन 1037.4  
**क्रियमाण**  
 घटनशील 75.12  
 संचल 1037.19  
**क्रियांग**  
 क्रियांग 459.28 ⇨  
 राग चार अंग सूची 459.28  
**क्रिया**  
 अनुभाव 368.6  
 करण 505.1  
 कर्म 504.1  
 क्रिया 425.4 ⇨  
 प्रक्रिया 514.5  
 प्रयत्न 489.1  
 वाक्यांग सूची 424.5

संस्कार 798.1  
**क्रिया अभाव**  
 अकरण 505.2  
**क्रिया कर्म**  
 मृतक संस्कार 253.1  
**क्रियाकलाप**  
 गतिविधि 502.2  
**क्रिया काल**  
 क्रिया काल 425.8 ⇨  
**क्रिया काल सूची**  
 क्रिया काल सूची 425.9 ⇨  
**क्रिया क्षेत्र**  
 कार्य स्थान 654.1  
**क्रियान्वित**  
 कार्यान्वित 505.27  
**क्रियान्विति**  
 कार्यान्वयन 505.5  
**क्रिया प्रतिक्रिया**  
 कर्म प्रतिकर्म 504.2  
**क्रियावली**  
 प्रक्रिया पुस्तक 446.22  
**क्रिया वाच्य**  
 क्रिया वाच्य 425.6 ⇨  
**क्रिया वाच्य सूची**  
 क्रिया वाच्य सूची 425.7 ⇨  
**क्रिया विकल्प**  
 चौसठ कला सूची 397.4  
**क्रिया विशेषण**  
 क्रिया विशेषण 425.10 ⇨  
**क्रिया विशेषः संपूर्ण विधि**  
 प्रक्रिया 514.5  
**क्रियाः विस्तार**  
 वाक्यांग सूची 424.5  
**क्रियारील**  
 गतिविधिपूर्ण 502.12  
 परिश्रमी 493.9  
 संचल 1037.19  
 स्फूर्त 491.13  
**क्रियारीलता**  
 संचलता 1037.3  
**क्रियारील होना**  
 प्रयत्न करना 489.5  
**क्रिया सूची**  
 क्रिया सूची 425.5 ⇨  
**क्रियाहीन**  
 अप्रयत्नशील 490.9  
 घटनाहीन 75.16  
**क्रियाहीनता**  
 अप्रयत्न 490.1  
**क्रिश्चियन (अँ)**  
 ईसाई धर्मावलंबी 736.17  
**क्रिस क्रोस (अँ)**  
 आड़े तिरछे 1026.12  
**क्रिसमस**  
 क्रिसमस 57.57 ⇨  
**क्रिसमस पूर्व 4 रविवार सहित काल**  
 ऐडवैट 57.58

क्रिसैंथेमम (अँ)

क्रिसैंथेमम (अँ)  
गुल दाऊदी 14 10  
क्रिस्टल (अँ)  
केलास 79 11  
जामे जहाँबी 262 8  
क्रिस्टल अवस्था  
केलास अवस्था 79 10  
क्रिस्टल गेजिंग (अँ)  
जहाँबीनी 262 7  
क्रिस्टलन  
केलासन 81 4  
क्रिस्टलित  
केलासित 81 16  
क्रिस्तान  
ईसाई धर्मावलम्बी 736 17  
क्रिस्तानी  
ईसा विषयक 791 31  
क्रिस्तिंग  
क्रिस्तिंग 798 31 ⇨  
क्रिस्तिंग (अँ)  
क्रिस्तिंग 798 31  
क्रिस्मस (अँ)  
क्रिसमस 57 57  
क्रिक (अँ)  
सैंकरी खाड़ी 24 9  
क्रीज  
क्रीज 975.3 ⇨  
क्रीज (अँ)  
क्रिकेट क्रीज 482 13  
क्रीज बनाना  
इस्तिरी करना 220 39  
क्रीडनक  
खिलीना 480 1  
क्रीडगन  
क्रीडगन 482 6 ⇨  
क्रीडा  
क्रीडा 469 4 ⇨  
खेल 475 1  
मनोरंजन 469 1  
लीला 506 8  
विनोद 385 1  
क्रीडा उपवन  
क्रीडा उपवन 12 14 ⇨  
क्रीडाकक्ष  
क्रीडाकक्ष 482 3 ⇨  
क्रीडाकर  
लीला कर्ता 506 11  
क्रीडा करना  
क्रीडा करना 469 10 ⇨  
क्रीडा कानन  
क्रीडा उपवन 12 14  
क्रीडा कौतुक  
मनोरंजन 469 1  
क्रीडा क्षेत्र  
खेल मैदान 482 10  
क्रीडागृह  
क्रीडागृह 482.2 ⇨

क्रीडाम्नि  
उत्सवाम्नि 106 2  
क्रीडापूर्ण  
क्रीडापूर्ण 469 15 ⇨  
क्रीडापूर्वक  
क्रीडापूर्वक 469 17 ⇨  
क्रीडाप्रिय  
क्रीडाप्रिय 469 16 ⇨  
क्रीडाप्रियता  
क्रीडाप्रियता 469.5 ⇨  
चघलता 860 8  
क्रीडाप्रिय पुरुष  
क्रीडाप्रिय पुरुष 469 6 ⇨  
क्रीडाप्रिय स्त्री  
क्रीडाप्रिय स्त्री 469.7 ⇨  
क्रीडा भूमि  
क्रीडा स्थल 482 1  
क्रीडा लक्ष्य अप्राप्ति  
क्रीडा लक्ष्य अप्राप्ति 475 25 ⇨  
क्रीडा लक्ष्य प्राप्ति  
क्रीडा लक्ष्य प्राप्ति 475.24 ⇨  
क्रीडा वन  
क्रीडा उपवन 12 14  
क्रीडा स्थल  
क्रीडा स्थल 482 1 ⇨  
क्रीत  
क्रीत 660 17 ⇨  
क्रीत दास  
क्रीत दास 651 13 ⇨  
क्रीत दास [क्रीत दासी]  
क्रीत दास 651 13  
क्रीत विक्रीत  
विपणित 658 13  
क्रीत सामान  
क्रीत सामान 660 4 ⇨  
क्रीम  
क्रीम 196 4 ⇨  
क्रीम 225 10 ⇨  
क्रीम (अँ)  
क्रीम 196 4  
क्रीम 225 10  
क्रीमिया 289 41  
क्रीमिया  
क्रीमिया 289 41 ⇨  
क्रीमेटोरियम (अँ)  
दाहागार 254 14  
क्रुद्ध  
अप्रसन्न 381 10  
ऊँची लहरो वाला 1040 33  
क्रुद्ध 373.28 ⇨  
क्रुद्ध होना  
क्रुद्ध होना 373.15 ⇨  
क्रुजर (अँ)  
यात्री पोत 1072 41  
क्रुडनेस (अँ)  
कलाहीनता 403 1  
क्रूर  
अत्याचारी 835.13

गिद्ध 126.26  
निर्दय 835 10  
भयानक 395 25  
मारने वाला 251 26  
हिंसक 251 31  
क्रूरता  
निर्दयता 835 2  
क्रूरतापूर्ण  
निर्दयतापूर्ण 835 9  
क्रूरलोचन  
शनि ग्रह 7 8  
क्रूरकृति  
रायण 784 12  
क्रूरत्मा  
दुर्जन 818 5  
शनि ग्रह 7 8  
क्रूस  
क्रूस 407 11 ⇨  
क्रूस यंत्र 871 10  
क्रूस (अँ)  
क्रूस 407.11  
क्रूस मृत्यु दंड 871 4  
क्रूसः मृत्यु दंड  
क्रूस मृत्यु दंड 871 4 ⇨  
क्रूस यंत्र  
क्रूस यंत्र 871.10 ⇨  
क्रैज (अँ)  
खब्द 353 11<sup>f</sup>  
क्रेट (अँ)  
घीकोर गठरी 674.3  
पेटी 676 20  
क्रेटबंद  
क्रेटबंद 1014 10 ⇨  
क्रेटबंदी  
क्रेटबंदी 1014 5 ⇨  
क्रेटिंग (अँ)  
क्रेटबंदी 1014 5  
क्रेटित  
क्रेटबंद 1014 10  
क्रेता  
क्रेता 660.3 ⇨  
क्रेता विक्रेता  
विपणक 658.2  
क्रेन  
क्रेन 1062.14 ⇨  
क्रेन (अँ)  
क्रेन 1062 14  
चेन कुप्पी 1062 15  
डेविट 1073 29  
क्रेप  
क्रेप 580 7 ⇨  
क्रेप (अँ)  
क्रेप 580 7  
क्रेप द शिन  
क्रेप द शिन 580.8 ⇨  
क्रेप द शिन (अँ)  
क्रेप द शिन 580 8

क्रेय  
क्रेय 660.18 ⇨  
क्रेयन (अँ)  
पेस्टल रंग 290 8  
क्रेक शाफ्ट  
क्रेक शाफ्ट 1077.15 ⇨  
क्रेक शाफ्ट (अँ)  
क्रेक शाफ्ट 1077 15  
क्रेडल (अँ)  
घरखी झूला डोली 1034 11  
शिशु पालना 1034 18  
क्रेडिट (अँ)  
आदेयता 634 13  
कीर्तिस्व 621 9  
जमा प्रविष्टि 632 7  
क्रेडिट कार्ड (अँ)  
ऋण पत्र सूची 633 15  
क्रेडिट सेल (अँ)  
उधार विक्रय 661 4  
क्रेडिबिलिटी (अँ)  
विश्वसनीयता 340 2  
क्रेब  
क्रेब 1062 18 ⇨  
क्रेब (अँ)  
क्रेब 1062 18  
क्रेरा (अँ)  
विमान अवपात 1081 28  
क्रेज नेस्ट (अँ)  
मस्तूल शिखर 1073 12  
क्रेक  
गोदी 721 7  
नृसिंह नौ रूप सूची 769 21  
धू क्रोड 9 11  
यक्ष 146 1  
क्रेडपत्र  
परिशिष्ट 447 10  
रिक्थ अनुपत्र 623 16  
क्रेडमुख  
गैडा 127 84  
क्रेडीय  
गोदी विषयक 721 17  
क्रेध  
आयेरा 371 1  
क्रेध 373 1 ⇨  
क्रोधोन्माद 354 5  
खीज 373 4  
बडिबकार सूची 812 5  
क्रेध (रीड)  
स्थायी भाव सूची 358.4  
क्रेप  
क्रुद्ध होना 373 15  
क्रेध शैरव  
शैरव गण सूची 767 33  
क्रेध मिटना  
क्रोध मिटना 372.7 ⇨  
क्रेधवंत [क्रेधवंती]  
क्रोधी 373.29

<b>क्रोधवरा</b>	<b>क्रौंचावन</b>	<b>स्नान</b> 120 11	<b>क्लिष्ट कल्पना</b>
क्रोधा 787.12	कमल ककड़ी 189.11	<b>क्लांति</b>	दुरारूढ कल्पना 308.4
<b>क्रोधशील</b>	<b>क्रौंचारति</b>	तद्रा 266.8	<b>क्लिष्टता</b>
क्रोधी 373.29	परशुराम अवतार 769.28	थकान 492 4	अबोध्यता 519 7
<b>क्रोधहा</b>	<b>क्रौंचारि</b>	<b>क्लांतिकर</b>	कठिनता 519.1
विष्णु 768.1	परशुराम अवतार 769 28	थकाऊ 492 17	<b>क्लिष्ट भाषा</b>
<b>क्रोधहीन</b>	स्कंद 773.50	<b>क्लांति निवारण</b>	क्लिष्ट भाषा 421.22 ⇨
क्रोधहीनता 372.13 ⇨	<b>क्रौंचिकल (अं)</b>	विश्राम 494 1	<b>क्लिष्टि</b>
<b>क्रोधहीनता</b>	समाचार पत्र 445.1	<b>क्लांतिपूर्ण</b>	क्लेश 392.3
क्रोधहीनता 372.4 ⇨	<b>क्रौंस (अं)</b>	अलसाया [अलसाई] 490.13	<b>क्ली</b>
<b>क्रोधा</b>	अस्वीकृति घिष्टन 407.5	<b>क्लांतिहर</b>	व्याहृति सूची 741.24
क्रोधा 787 12 ⇨	कूस 407.11	विश्रामप्रद 494 22	<b>क्लीनिक (अं)</b>
<b>क्रोधानुभूति</b>	कूस मृत्यु दंड 871 4	<b>क्लांतिहीनता</b>	धिकित्सालय 175 1
रौद्र रस 455 16	कूस यंत्र 871.10	अथकान 493 5	<b>क्लीनिकल डैथ (अं)</b>
<b>क्रोधान्वित</b>	<b>क्रौंस ऐंजामिनेशन (अं)</b>	<b>क्लाइमेट (अं)</b>	निदानीय मृत्यु 249 3
क्रुद्ध 373 28	जिरह 876 7	जलयायु 51 1	<b>क्लीयरेंस सेल</b>
<b>क्रोधाघिष्ट</b>	जिरह 324 7	<b>क्लाइमैक्स</b>	क्लीयरेंस सेल 661.8 ⇨
अति क्रुद्ध 373 30	<b>क्रौंसधारी</b>	<b>क्लाइमैक्स (अं)</b>	<b>क्लीयरेंस सेल (अं)</b>
<b>क्रोधावेश</b>	ईसा 791 8	क्लाइमैक्स 463.29 ⇨	क्लीयरेंस सेल 661 8
अति क्रोध 373.2	<b>क्रौंस व्रीडिंग (अं)</b>	<b>क्लाइमैक्स (अं)</b>	<b>क्लीय</b>
<b>क्रोधित</b>	संकरण 243 7	क्लास (अं)	नपुसक 238 18
क्रुद्ध 373 28	<b>क्रौंस स्टिच</b>	कक्षा 691 3	हिजड़ा 238 5
<b>क्रोधी</b>	<b>क्रौंस स्टिच 572.10 ⇨</b>	कोटि 936 1	<b>क्लीयता</b>
क्रोधी 373 29 ⇨	<b>क्रौंस स्टिच (अं)</b>	शिक्षालय कक्षा 321 13	नपुसकता 238 4
रुद्र 767 34	क्रौंस स्टिच 572 10	समाज वर्ग 688 7	<b>क्लीब लिंग</b>
<b>क्रोधोन्माद</b>	<b>क्रौंसिंग (अं)</b>	<b>क्लासफिलो (अं)</b>	नपुसक लिंग 425 49
क्रोधोन्माद 354 5 ⇨	घोराहा 1064.5	सहपाठी 323 27	<b>क्लेद</b>
<b>क्रोबार (अं)</b>	पारपथ 1064 12	<b>क्लासरूम (अं)</b>	आर्द्रता 88 16
लीवर 1062.3	<b>क्लघ</b>	शिक्षालय कक्ष 321 12	पूय 167 16
<b>क्रोमियम</b>	<b>क्लघ 1078.14 ⇨</b>	<b>क्लासिक (अं)</b>	स्येद 215 3
क्रोमियम 94.3 ⇨	<b>क्लघ (अं)</b>	कालजयी कलाकृति 397 22	<b>क्लेदन</b>
<b>क्रोमियम (अं)</b>	क्लघ 1078.14	<b>क्लासिकल आर्ट्स (अं)</b>	आर्द्रण 88 17
क्रोमियम 94 3	<b>क्लघ प्लेट</b>	शास्त्रीय कला 397 7	मिगोई 220 16
<b>क्रोमीयम</b>	<b>क्लघ प्लेट 1078 15 ⇨</b>	<b>क्लासिकलाइड (अं)</b>	<b>क्लेदित</b>
क्रोमियम 94.3	<b>क्लघ प्लेट (अं)</b>	कोटिकृत 936 13	आर्द्र 88 27
<b>क्रोमोसोम</b>	क्लघ प्लेट 1078.15	<b>क्लासिकलाइड करना</b>	<b>क्लेश</b>
क्रोमोसोम 130.2 ⇨	<b>क्लघ सैंडविच</b>	कोटिकरण करना 936 6	अज्ञान 306 1
<b>क्रोमोसोम (अं)</b>	<b>क्लघ सैंडविच 202.39 ⇨</b>	<b>क्लासिकलकेटरी (अं)</b>	कलह 708 1
क्रोमोसोम 130.2	<b>क्लघ सैंडविच (अं)</b>	कोटिकरणीय 936 12	कष्ट 392 1
<b>क्रोश</b>	क्लघ सैंडविच 202.39	<b>क्लासिकलकेशन (अं)</b>	क्लेश 392.3 ⇨
आक्रोश 373 3	<b>क्लर्क</b>	कोटिकरण 936.5	क्लेश 761.16 ⇨
आर्तनाद 386.3	<b>क्लर्क 652.36 ⇨</b>	<b>क्लिन्न</b>	दुःख 391 1
कोस 959.21	<b>क्लर्क (अं)</b>	आर्द्र 88 27	माया 762 9
शाप 713.1	क्लर्क 652.36	पूयित 169 15	रोग 163 4
<b>क्रोश विक्रय</b>	लिपिक 412 4	<b>क्लिन्नता</b>	शारीरिक पीड़ा 392.4
नीलाम 659.8	लेखापाल 632 32	आर्द्रता 88 16	<b>क्लेशक</b>
<b>क्रोशिया</b>	<b>क्लर्कगीरी</b>	<b>क्लिप</b>	क्लेशप्रद 392.25
किरोशिया 562.22	क्लर्की 652.35	<b>क्लिप 417.3 ⇨</b>	<b>क्लेशकारी</b>
<b>क्रोशिया बुनाई</b>	<b>क्लर्की</b>	<b>क्लिप (अं)</b>	क्लेशप्रद 392.25
बुनाई: विधि सूची 576.3	<b>क्लर्की 652.35 ⇨</b>	क्लिप 417 3	<b>क्लेशप्रस्त</b>
<b>क्रोष्टा</b>	लेखा पालन 632.31	हेअर क्लिप 223 11	क्लेशप्रस्त 392.24 ⇨
गीदक 127.75	<b>क्लर्की (अं)</b>	<b>क्लिपर (अं)</b>	<b>क्लेश ध्वनि</b>
<b>क्रौंच</b>	ईसाई धर्माधिकारी समष्टि 744 27	नौका सूची 1072.3	शोक ध्वनि 383 4
क्रौंच 126.23 ⇨	<b>क्लर्कीमैन (अं)</b>	<b>क्लिष्ट</b>	<b>क्लेशप्रब</b>
जलपत्नी सूची 126.7	ईसाई धर्माधिकारी समष्टि 744.28	अपठनीय 401.12	क्लेशप्रद 392.25 ⇨
<b>क्रौंच द्वीप</b>	<b>क्लांत</b>	कठिन 519.18	<b>क्लेशी</b>
पौराणिक महाद्वीप सूची 26.7	अलसाया [अलसाई] 490.13	क्लेशप्रस्त 392.24	क्लेशप्रद 392.25
	थका [थकी] 492.15	दुर्बोध 519.23	

## क्लेष्टा

### क्लेष्टा

- क्लेशप्रद 392 25  
क्लीक्लोन (अं)  
होर्न 461 92  
क्लीरिक (अं)  
ईसाई धर्माधिकारी 744 28  
क्लोक रुम  
क्लोक रुम 670 23 ⇨  
क्लोक रुम (अं)  
क्लोक रुम 670 23  
क्लोजअप  
क्लोजअप 472 18 ⇨  
क्लोजअप (अं)  
क्लोजअप 472 18  
क्लोनिंग  
क्लोनिंग 548 12 ⇨  
क्लोनिंग (अं)  
क्लोनिंग 548 12  
क्लोम  
दाहिना फुफफुस 146 3  
फुफफुस 146 2  
क्लोरीन  
क्लोरीन 86 5 ⇨  
क्लोरीन (अं)  
क्लोरीन 86 5  
क्लोरोफिल  
क्लोरोफिल 179.14 ⇨  
क्लोरोफिल (अं)  
क्लोरोफिल 179 14  
क्लीइस्टर  
क्लीइस्टर 745 24 ⇨  
क्लीइस्टर (अं)  
ईसाई मठ 745 10  
क्लीइस्टर 745 24  
क्लीक (अं)  
घड़ी 50 16  
दीवार घड़ी 50 25  
क्लीक टॉवर (अं)  
घंटाघर 50.26  
क्लीकवाइज़ (अं)  
अनुघटी 1033 21  
क्लीकवाइज़ मूवमेंट (अं)  
अनुघटी परिक्रमा 1033 5  
क्लीप (अं)  
उपपाक्य 424 10  
क्लीथ (अं)  
वस्त्र 579 1  
क्वाबिस्-  
कुछ 316 6  
क्वण  
छमछम 296 8  
ध्वनि 294 1  
वीणा ध्वनि 296 14  
क्वणन  
ध्वनन 294.2  
क्वणित  
ध्वनित 294 21

### क्वथन

- औटन 91 4  
निष्पयाधन 195 40  
क्वथनांक  
क्वथनांक 103 12 ⇨  
क्वथनित्र  
बायलर 109 21  
क्वथित  
उद्भयाथित 195 76  
क्वांटीटी (अं)  
कितनापन 946 1  
क्वांतम  
कितनापन 946 1  
मात्रा 946 3  
क्वाइंट (अं)  
चक्र चौथा भाग 960 3  
क्वाथ  
काढ़ा 208 19  
क्वार  
आश्विन 43 13  
क्वारा  
अविवाहित 234 13  
क्वारी  
अविवाहिता 234 14  
कुमारी 234 17  
क्वार्ट  
क्वार्ट 959.46 ⇨  
क्वार्टर  
क्वार्टर 602 18 ⇨  
क्वार्टर (अं)  
क्वार्टर 602 18  
प्लेट 602 27  
क्वार्टर पिन  
क्वार्टर पिन 417.7 ⇨  
क्वार्टर पिन (अं)  
क्वार्टर पिन 417 7  
क्वार्टर प्लेट (अं)  
डिनर सेट सूची 680 21  
क्वार्टर्ज (अं)  
केलास 79.11  
क्वार्सिटी (अं)  
गुणयत्ता 957 6  
क्वालीक्राइड (अं)  
अहंतासंपन्न 303.16  
क्वालीक्रिकेरांस (अं)  
अहंता 303 3  
क्विटल  
क्विटल 962.32 ⇨  
क्विटल (अं)  
क्विटल 962.32  
क्विक मार्च  
क्विक मार्च 1083 13 ⇨  
क्विक मार्च (अं)  
क्विक मार्च 1083.13  
क्वियज़  
क्वियज़ 333 17 ⇨  
क्वियज़ (अं)  
क्वियज़ 333 17

### क्वियज़

- क्वियज़ 333.27 ⇨  
क्वियज़ (अं)  
क्वियज़ 333 27  
क्वियट इंडिया मूवमेंट (अं)  
भारत छोड़ो आंदोलन 904 8  
क्विवीज़न (अं)  
पाक शैली 195 5  
रेस्तोरॉ आहार 199 7  
क्वैक (अं)  
अनाड़ी धिकित्सक 171.14  
क्वैश्चन (अं)  
प्रश्न 333 1  
क्वैश्चनेअर (फ्रां)  
प्रश्नावली 333 7  
क्ष किरण चित्र  
ऐक्सरे फोटो 171 7  
क्षण  
अल्प काल 38 4  
क्षण 50.11 ⇨  
सैकड 50 10  
क्षण क्षण  
प्रति क्षण 1049 19  
क्षणजीवी  
नश्वरता 38 7  
क्षणद्युति  
मेघ विद्युत् 55 9  
विद्युत चमक 55.10  
क्षण भंगुर  
अल्प कालीन 38.8  
अल्पायु 229.18  
क्षण भंगुरता  
अल्प कालीनता 38 3  
अल्पायुता 229 5  
नश्वरता 38 2  
क्षण स्थायित्व  
अल्प कालीनता 38 3  
अल्पायुता 229.5  
क्षण स्थायी  
अल्प कालीन 38.8  
अल्पायु 229.18  
क्षणिक  
अल्प कालीन 38.8  
क्षणिकता  
अल्प कालीनता 38.3  
नश्वरता 38 2  
क्षणिक वर्षा  
क्षणिक वर्षा 54.8 ⇨  
क्षणिकयाद  
बौद्ध संप्रदाय सूची 737.15  
क्षणिका  
मेघ विद्युत 55 9  
क्षत  
आहत 168.6  
घायल 168 7  
नष्ट 531.7  
क्षति  
अपकार 831 4

- आहित 712.2  
आहति 168 1  
विलब्धि 863.1  
ग्रण 167 12  
हानि 646 7  
क्षतिकारक  
हानिप्रद 646 18  
क्षतिकारी  
हानिप्रद 646 18  
क्षतिकृत  
अपकृत 831 13  
क्षतिप्रस्त  
आहत 168 6  
हानि प्राप्त 646 17  
क्षतिपूरक  
क्षतिपूरक 634 36 ⇨  
क्षति पूर्ति  
क्षति पूर्ति 634 16 ⇨  
क्षति पूर्ति करना  
क्षति पूर्ति करना 634 23 ⇨  
क्षतिप्रद  
हानिप्रद 646.18  
क्षति प्राप्त  
हानि प्राप्त 646 17  
क्षतिहीन  
अनाहत 168 8  
क्षत्र  
क्षत्रिय 731 19  
योद्धा 934 15  
राज्य 881 5  
क्षत्रप  
प्रातः प्रशासक 882 31  
क्षत्र विद्या  
युद्ध विद्या 907.28  
क्षत्र वेद  
धनुर्वेद 740 38  
क्षत्रसत्र  
यज्ञ सूची 753.2  
क्षत्रांतक  
परशुराम अवतार 769 28  
क्षत्राणी  
क्षत्रिय स्त्री 731.20  
क्षत्रिय  
क्षत्रिय 731.19 ⇨  
द्विज सूची 731.8  
वर्ण सूची 731.4  
क्षत्रिय ऋषि  
राजर्षि 789.10  
क्षत्रिय स्त्री  
क्षत्रिय स्त्री 731.20 ⇨  
क्षत्रिया  
क्षत्रिय स्त्री 731 20  
क्षत्रियाणी  
क्षत्रिय स्त्री 731.20  
क्षत्री  
क्षत्रिय 731.19  
क्षत्रीय  
क्षत्रीय 731.36 ⇨

राज्यीय 881.32  
**क्षदन**  
 भोजन कर्म 181.4  
 यिदरण 544.2  
**क्षपण**  
 जैन साधु 790.24  
 बौद्ध भिक्षु 790.27  
**क्षपणक**  
 जैन साधु 790.24  
 नग्न साधु 790.19  
 बौद्ध भिक्षु 790.27  
**क्षपा**  
 रात 48.1  
**क्षपाकर**  
 घट्टमा 8.2  
**क्षपाघर**  
 पिशाच 786.8  
 राक्षस 784.1  
 शिव 767.1  
**क्षम**  
 योग्य 303.14  
 शक्तिशाली 487.20  
 सक्षम 487.25  
**क्षमता**  
 ऊर्जा 101.1  
 क्षमता 487.7 ⇨  
 धारण क्षमता 966.4  
 भार वहन क्षमता 1061.12  
 योग्यता 303.1  
**क्षमता (दे.)**  
 यश 899.13  
 शक्ति 487.1  
**क्षमतानुसार**  
 यथाक्षमता 487.32  
**क्षमतापूर्वक**  
 क्षमतापूर्वक 487.33 ⇨  
**क्षमताशाली**  
 सक्षम 487.25  
**क्षमता हरना**  
 क्षमता हरना 488.9 ⇨  
**क्षमताहीन**  
 क्षमताहीन 488.15 ⇨  
**क्षमताहीनता**  
 क्षमताहीनता 488.4 ⇨  
**क्षमा**  
 ऋषि स्त्री सूची 789.25  
 कृत्तिका सूची 774.31  
 क्षमा 872.1 ⇨  
 दुर्गा 776.7  
 धर्म लक्षण सूची 737.29  
 प्राण क्षमा 250.2  
**क्षमा अकर्ता**  
 क्षमाहीन 873.11  
**क्षमा अभाव**  
 क्षमाहीनता 873.1  
**क्षमा करना**  
 क्षमा करना 872.6 ⇨  
 सहिष्णु होना 872.7

**क्षमा करना (दे.)**  
 प्राण क्षमा करना 250.11  
**क्षमा कर्ता**  
 क्षमा दाता 872.15  
**क्षमादत्त**  
 क्षमाप्राप्त 872.12  
**क्षमादाता**  
 क्षमा दाता 872.15  
**क्षमा दाता**  
 क्षमा दाता 872.15 ⇨  
**क्षमादान**  
 क्षमादान 872.2 ⇨  
**क्षमा देना**  
 क्षमा करना 872.6  
**क्षमा न करना**  
 क्षमा न करना 873.7 ⇨  
**क्षमापत्र**  
 क्षमापत्र 872.3 ⇨  
**क्षमापात्र**  
 क्षम्य 872.13  
**क्षमापूर्ण**  
 क्षमाशील 872.11  
**क्षमा प्राप्त**  
 क्षमाप्राप्त 872.12  
**क्षमाप्राप्त**  
 क्षमाप्राप्त 872.12 ⇨  
**क्षमा प्रार्थी**  
 क्षमा याचक 872.14  
**क्षमा मीगना**  
 खेद प्रकाशित करना 380.7  
**क्षमा याचक**  
 क्षमा याचक 872.14 ⇨  
**क्षमायाची**  
 क्षमा याचक 872.14  
**क्षमा योग्य**  
 क्षम्य 872.13  
**क्षमावान [क्षमावती]**  
 क्षमाशील 872.11  
**क्षमाशील**  
 क्षमाशील 872.11 ⇨  
**क्षमाशीलता**  
 सहिष्णुता 872.4  
**क्षमाहीन**  
 क्षमाहीन 873.11 ⇨  
**क्षमाहीनता**  
 क्षमाहीनता 873.1 ⇨  
**क्षमित**  
 क्षमाप्राप्त 872.12  
**क्षमिता**  
 क्षमा दाता 872.15  
**क्षम्य**  
 क्षम्य 872.13 ⇨  
**क्षयंकर**  
 हासक 531.13  
**क्षय**  
 कुपोषण 179.4  
 क्षय रोग 163.35  
 नाश 531.1

मृत्यु क्षयण 664.15  
 वनस्पति क्षय 549.4  
 हास 531.3  
**क्षयकाय**  
 कुपोषित 179.24  
**क्षयकारक**  
 हासक 531.13  
**क्षयन**  
 घटान कर्म 954.6  
**क्षय मास**  
 क्षय मास 43.20 ⇨  
**क्षय रोग**  
 क्षय रोग 163.35 ⇨  
**क्षयशील**  
 नश्वर 38.7  
 परिवर्तनशील 532.17  
 हासशील 531.12  
**क्षयशीलता**  
 नश्वरता 38.2  
**क्षयहीन**  
 अनश्वर 37.9  
 अनश्वर 37.9  
**क्षयहीनता**  
 अनश्वरता 37.3  
 अनश्वरता 37.3  
**क्षय होना**  
 हास होना 531.6  
**क्षयित**  
 घटाया [घटाई] 9४4.14  
 हस्त 531.11  
**क्षयित होना**  
 हास होना 531.6  
**क्षयिष्णु**  
 नश्वर 38.7  
 हासशील 531.12  
**क्षयिष्णुता**  
 नश्वरता 38.2  
**क्षयी**  
 इहलीकिक 258.13  
 चंद्रमा 8.2  
 नश्वर 38.7  
 हासशील 531.12  
**क्षर**  
 नश्वर 38.7  
 परिवर्तनशील 532.17  
**क्षरण**  
 आसवन 82.1  
 ज्ञाघ 83.3  
 ज्ञाय 1032.1  
**क्षरणशील**  
 जावशील 1032.27  
**क्षरता**  
 नश्वरता 38.2  
**क्षरित**  
 क्षयित 1032.26  
**क्षरित होना**  
 धार गिरना 1032.22

**क्षांत**  
 क्षमाशील 872.11  
**क्षांता**  
 पृथ्वी 9.1  
**क्षांति**  
 सहिष्णुता 872.4  
**क्षात्र**  
 क्षत्रिय 731.19  
 क्षत्रीय 731.36  
 राज्यीय 881.32  
**क्षाम**  
 यिष्णु 768.1  
 शिव 767.1  
**क्षार**  
 क्षार 87.10 ⇨  
 राख 106.15  
 सुहागा 281.33  
**क्षारक**  
 क्षार 87.10  
 पक्षी पाश 1013.11  
 मछली जाल 1013.13  
**क्षारता**  
 नमकीनपन 279.1  
**क्षार त्रय**  
 त्रिभार 87.11  
**क्षार भूमि**  
 ऊसर 552.3  
**क्षारमूला**  
 मूली 189.32  
**क्षार मुक्तिका**  
 रेह 87.15  
**क्षालन**  
 प्रक्षालन 220.1  
**क्षालित**  
 प्रक्षालित 220.40  
**क्षिणाक**  
 तिब्बत 27.7  
**क्षिति**  
 एक. उपमान सूची 948.18  
 पृथ्वी 9.1  
**क्षिति क्षोद**  
 धूलि 100.4  
**क्षितिज**  
 क्षितिज 2.4 ⇨  
**क्षितिज वृत्त**  
 दिशा मंडल 29.21  
**क्षितिजा**  
 सीता 770.66  
**क्षितिजीय**  
 अनुक्षितिज 1020.12  
 क्षितिजीय 2.9 ⇨  
**क्षितिजीयता**  
 अनुक्षितिजता 1020.5  
**क्षिति तल**  
 संपूर्ण धरातल 25.1  
**क्षिति देव**  
 ब्राह्मण 731.13

## क्षितिधर

### क्षितिधर

पर्वत 163

### क्षिति नाग

केचुआ 122 7

### क्षितिनाथ

राजा 882 6

### क्षितिरुह

वृक्ष 111 18

### क्षितिमुत

मंगल ग्रह 7 7

### क्षितीन्द्र

राजा 882 6

### क्षितीय

पृथ्वीय 9 21

### क्षितीश

राजा 882 6

विष्णु 768 1

### क्षित्यदिति

देवकी 771 61

### क्षिपक

प्रक्षेपयिता 1052 20

### क्षिपणी

घण्टा 1073 6

डॉड 1073 5

फेक फदा 1013 10

शस्त्र 922 2

### क्षिपणु

धनुषधारी 930 13

### क्षिप्त

पागल 354 24

प्रक्षेपित 1052 19

### क्षिप्तचित्त

अस्थिरचित्त 355 7

### क्षिप्ति

प्रक्षेप 1052 1

### क्षिप्र

द्रुत 1044 6

### क्षिप्र [क्षिप्रा]

स्फूर्त 491 13

### क्षिप्रतः

शीघ्रतः 496 13

### क्षिप्रता

द्रुतता 1044 1

शीघ्रता 496 1

### क्षिप्रा

क्षिप्रा 20 19 ⇌

### क्षीण

अपोषण ग्रस्त 179 23

अप्रबल 488 14

अस्पष्ट 823 11

कनकना [कनकनी] (स्वर) 299 27

बारीक 965 13

मांसहीन 132 19

समाप्त 942 20

हस्त 531 11

### क्षीण कटि

पतली कमर 158 7

### क्षीण कर्ता

हासक 531 13

### क्षीणकाय

क्षीणकाय 159 13 ⇌

### क्षीणकायता

क्षीणकायता 159 4 ⇌

### क्षीणकाय होना

क्षीणकाय होना 159 7 ⇌

### क्षीणता

अपोषण 179 3

अस्पष्टता 823 1

क्षीणकायता 159 4

बारीकी 965 9

शक्तिहीनता 488 1

सुखडी 163 36

### क्षीण वर्षा

क्षीण वर्षा 54 9 ⇌

### क्षीर

खीर 203 4

दूध 193 2

### क्षीरज

कमल 14 4

जलज 88 24

दही 193 9

मक्खन 196 6

### क्षीरजा

लक्ष्मी 775 1

### क्षीरद्रुम

पीपल 13.14

### क्षीरधि

समुद्र 24 1

क्षीर विकृति

दूध उत्पाद 193 1

### क्षीर शाक

पनीर 193 14

### क्षीरस

मलाई 196 5

### क्षीर सागर

नाग निवास 778.15

विष्णु आवास 768 7

सप्त सागर सूची 24 22

### क्षीराद

दुग्धाहारी 204.9

### क्षीरिका

बॉस निर्यास 84 10

### क्षीरी

गेहूँ 187 8

### क्षीरीय

दुग्धीय 193.17

### क्षुण्ण

भजित 539 12

हस्त 531.11

### क्षुद्र

अधम 840 4

कृपण 639 26

दुर्जन 818.5

नगण्य 853 10

लघुकाय 154 28

सूक्ष्म 980 21

### क्षुद्र (पिंड)

बारीक 965 13

### क्षुद्र जंतु

कृमि कीट 122 1

### क्षुद्र जन

अधम जन 840 2

### क्षुद्रता

अधमता 840 1

### क्षुद्र पाषाण मानव

उदय वन्र मानव 128 8

### क्षुद्र पुरुष

अधम पुरुष 840 3

### क्षुद्रल

सूक्ष्म 980 21

### क्षुद्र व्याघ्र

लकड़बगघा 127 78

### क्षुद्रांत्र

क्षुद्रांत्र 152 4 ⇌

### क्षुद्रा

मक्खी 122 37

### क्षुद्राणु

रोगाणु 122 5

### क्षुद्रात्मा

अधम 840 4

### क्षुद्राराय

सकीर्णहृदय 818 10

### क्षुद्रारायता

दुरारायता 818.4

### क्षुधा

इच्छा 359 1

क्षुधा 180 1 ⇌

### क्षुधा कातर

क्षुधा कातर 180 16 ⇌

क्षुधा कातर होना

बहुत भूखा होना 180 9

### क्षुधाग्रस्त

क्षुधित 180 15

### क्षुधातुर

क्षुधा कातर 180 16

### क्षुधा निवारक

क्षुधा शामक 180 18

### क्षुधा निवारण

क्षुधा शमन 180.4

### क्षुधापूर्यक

क्षुधिततः 180 23

### क्षुधार्त्त

क्षुधा कातर 180 16

### क्षुधा वर्धक

क्षुधा वर्धक 180 17 ⇌

### क्षुधा वर्धन

क्षुधा वर्धन 180.3 ⇌

### क्षुधा वर्धन करना

भूख बढ़ाना 180 10

### क्षुधा शमन

क्षुधा शमन 180.4 ⇌

### क्षुधा शामक

क्षुधा शामक 180.18 ⇌

### क्षुधाहर

क्षुधा शामक 180 18

### क्षुधाहीनता

अक्षुधा 180 2

### क्षुधित

क्षुधित 180.15 ⇌

### क्षुधिततः

क्षुधितत 180 23 ⇌

### क्षुधित होना

भूखा होना 180 8

### क्षुधोत्तेजक

क्षुधा वर्धक 180 17

### क्षुधोत्तेजन

क्षुधा वर्धन 180 3

### क्षुप

झाड़ 111 16

### क्षुप समूह

झाड़ी 12 20

### क्षुब्ध

उपद्रवग्रस्त 903 16

ऊँची लहरो वाला 1040 33

कुद 373 28

भयभीत 395 19

### क्षुब्धता

उद्विग्नता 377 4

### क्षुर

खुर 150 11

### क्षुर कर्म

क्षुर कर्म 224 1

### क्षुरपा

खुरपा 563 2

### क्षुरिका

घुरी 561 9

### क्षुरिपा

खुरपी 563 3

### क्षेत्र

अधिकार क्षेत्र 897 2

आहार वितरण केंद्र 183.31

क्षेत्र 34 1 ⇌

क्षेत्रफल 966 1

खेत 551 1

खेल मैदान 482 10

जीय 121 4

तीर्थ स्थान 1089 10

थलीय धरातल 25 3

दिशा 29 1

दो आयाम 964 6

नगर खंड 619 5

भुजाकृति 969.2

मैदान 11 1

युद्ध क्षेत्र 905.6

राशि 4 7

शरीर 139.1

### क्षेत्र: आकार

क्षेत्रफल 966 1

### क्षेत्र आयतन

क्षेत्र माप 959.32

**क्षेत्र गणित**  
ज्यामिति 956 1  
**क्षेत्रज**  
क्षेत्रज 716 17 ⇨  
**क्षेत्रज्ञ**  
अतरिन्द्रिय 268 4  
अतर्यामी 761 27  
अभ्यस्त 303 19  
आत्मा 763 1  
ईश्वर 764 1  
कृषक 548 2  
ज्ञानी 305 30  
प्रत्यक्ष दर्शी 284 51  
प्रवीण 303 22  
ब्रह्म 764 24  
विष्णु 768 1  
शिव 767 1  
**क्षेत्रज्ञता**  
क्षेत्र ज्ञान 761 6  
**क्षेत्र ज्ञान**  
क्षेत्र ज्ञान 761 6 ⇨  
**क्षेत्रण**  
क्षेत्र मापन 959 33  
**क्षेत्र देवता**  
स्थान देवता 772 22  
**क्षेत्र निर्धारक**  
सीमाकक 1001 38  
**क्षेत्र निर्धारण**  
क्षेत्राकन 1001 14  
**क्षेत्र निर्वासन**  
क्षेत्र निर्वासन 870 9 ⇨  
**क्षेत्र निर्वासित**  
क्षेत्र निर्वासित 870.26 ⇨  
**क्षेत्र निर्वासित करना**  
क्षेत्र निर्वासित करना 870.18 ⇨  
**क्षेत्रपति**  
बड़ा जमींदार 553 15  
**क्षेत्रपाल**  
कृषि रक्षक 550 2  
जनपद समूह प्रसासक 891 6  
**क्षेत्रफल**  
क्षेत्रफल 966 1 ⇨  
वर्गफल 955 10  
**क्षेत्र माप**  
क्षेत्रफल 966 1  
क्षेत्र माप 959.32 ⇨  
**क्षेत्र माप एकक**  
क्षेत्र माप एकक 958.4 ⇨  
**क्षेत्र मापक**  
क्षेत्र मापक 599.18 ⇨  
**क्षेत्र मापन**  
क्षेत्र मापन 599.17 ⇨  
क्षेत्र मापन 959.33 ⇨  
**क्षेत्र मापन उपकरण**  
क्षेत्र मापन उपकरण 959.34 ⇨  
**क्षेत्रमिति**  
ज्यामिति 956 1

**क्षेत्रमूल**  
वर्गमूल 955.11  
**क्षेत्र रक्षक**  
क्षेत्र रक्षक 475.11 ⇨  
**क्षेत्र रक्षण**  
क्षेत्र रक्षण 475.10 ⇨  
**क्षेत्रविद्य**  
अंतर्यामी 761 27  
**क्षेत्र विस्तार**  
क्षेत्रफल 966 1  
**क्षेत्र व्यवहार**  
क्षेत्र मापन 959.33  
**क्षेत्रव्यापी समय**  
मानक समय 50 6  
**क्षेत्र सर्वेक्षण**  
भूसर्वेक्षण 599 16  
**क्षेत्र सीमांकन**  
क्षेत्राकन 1001 14  
**क्षेत्र सीमा**  
सीमा 1001 1  
**क्षेत्र स्तरीय**  
क्षेत्र स्तरीय 35 2 ⇨  
**क्षेत्र स्तरीयता**  
क्षेत्र स्तरीयता 35.1 ⇨  
**क्षेत्रांकन**  
क्षेत्राकन 1001 14 ⇨  
**क्षेत्रांकित**  
क्षेत्रांकित 1001 35 ⇨  
**क्षेत्राकृति**  
भुजाकृति 969 2  
**क्षेत्राधिकार**  
अधिभोग अधिकार 622 2  
जमींदारी 553 13  
**क्षेत्राधिदेव**  
स्थान देवता 772 22  
**क्षेत्राधिप**  
जमींदार 553 14  
**क्षेत्राधीन**  
जनपद समूह प्रसासक 891 6  
**क्षेत्री**  
आत्मा 763 1  
कृषक 548 2  
**क्षेत्रीय**  
क्षेत्रीय 34 14 ⇨  
**क्षेत्रीय कार्यालय**  
क्षेत्रीय कार्यालय 654 7 ⇨  
**क्षेत्रीयता**  
क्षेत्र स्तरीयता 35 1  
**क्षेप**  
खेप 886 3  
प्रक्षेप 1052 1  
व्यतीति 74.1  
**क्षेपक**  
प्रक्षिप्त पाठ 412.35  
**क्षेपण**  
आरोप 875.7  
गुलेल 926.1  
छिलराय 888.8

तीर प्रक्षेपण 1052 5  
प्रक्षेपण 1052 2  
प्रक्षेपास्त्र 927 18  
बिखराय 668 1  
संचालन 1037 5  
**क्षेपण कर्ता**  
प्रक्षेपयिता 1052 20  
**क्षेपणि**  
गुलेल 926 1  
टेलबॉस 926 6  
**क्षेपणिक**  
चप्पू धारी 1080 20  
**क्षेपणी**  
चप्पू 1073 6  
**क्षेपणी चक्र**  
पेडल व्हील 1073 4  
**क्षेपास्त्र**  
प्रक्षेपास्त्र 927 18  
**क्षेप्ता**  
प्रक्षेपयिता 1052 20  
**क्षेप्यास्त्र**  
दूरगामी राकेट 1075 2  
**क्षेमकर**  
कल्याणकारी 710 21  
योगक्षेम कर्ता 710 26  
**क्षेम**  
कल्याण 710 2  
कुशल क्षेम 710 6  
नक्षत्र 4 5  
योगक्षेम 710 8  
सुरक्षा 908 4  
गौभाग्य 260 17  
**क्षेमकर**  
योगक्षेम कर्ता 710 26  
**क्षेमकर [क्षेमकारी]**  
कल्याणकारी 710 21  
**क्षेमा**  
दुर्गा 776 7  
**क्षेम्ब**  
शांति स्थापक 906 14  
**क्षैतिज**  
अनुक्षितिज 1020 12  
**क्षैतिज रेखा**  
क्षैतिज रेखा 968.21 ⇨  
**क्षोणि**  
पृथ्वी 9 1  
**क्षोद**  
चूर्णन 540 1  
धूलि 100.4  
पिसाई 540 6  
**क्षोदिमा**  
सूक्ष्मता 980 2  
**क्षोभ**  
उद्विग्नता 377 4  
उद्वेग 377.3  
उबाल 91.2  
क्रोध 373.1  
समुद्री तूफान 85 9

**क्षोभजनक**  
धिताजनक 377 12  
**क्षोभहीन**  
निरुद्विग्न 378 9  
**क्षोभहीनता**  
निरुद्विग्नता: 378 3  
**क्षोभाकुल**  
उद्विग्न 377 13  
**क्षोभी**  
उद्विग्न 377 13  
**क्षीम**  
चंद्रशाला 614 24  
बरसाती कमरा 614 27  
रेशमी वस्त्र 579 10  
**क्षीमी**  
अलसी 196 15  
**क्षीर**  
केश मुडन 224 5  
क्षीर कर्म 224 1  
शेव 224 8  
**क्षीर उपकरण**  
क्षीर उपकरण 224 10 ⇨  
**क्षीरकरण**  
क्षीर कर्म 224 1  
**क्षीर कर्म**  
क्षीर कर्म 224 1 ⇨  
**क्षीर कर्म करना**  
क्षीर कर्म करना 224 11 ⇨  
**क्षीर कर्मी**  
क्षीर कर्मी 224 2 ⇨  
**क्षीरिक**  
क्षीर कर्मी 224 2  
**क्ष्मा**  
पृथ्वी 9 1  
**क्ष्वेड**  
व्यजनार्थ 426 6

ख

**खंख**  
निर्जन 617 16  
रिक्त 1005 7  
**खंग**  
खड्ग 924 3  
गैडा 127.84  
**खंगधारी**  
खड्गधारी 930 8  
**खंगपाणि**  
खड्गधारी 930.8  
**खंगहा**  
उदंती (जंतु) 144 19  
गैडा 127.84  
**खँगाल**  
खँगाल 220.13 ⇨  
**खँगालना**  
खँगालना 220 35 ⇨  
**खँगैल**  
उदंती (जंतु) 144.19

## खँगोलना

### खँगोलना

खँगोलना 220 35

घँगोलना 1008 22

### खँगारना

खँगालना 220 35

### खँगाना

खघन करना 406 38

### खँगिया

टोकरी 677 5

### खँगजन

खजन 126 24 ⇨

### खँगजनाभ

घघलनगधन 158 22

### खँगजनाक्षा

घघलनधना 158 23

### खँगजर

कृपाण 924 1

### खँगजरी

डफली 461 40

### खँगजरीट

खजन 126 24

### खँगड

अनाज खड 192 1

उपपाक्य 424 10

काव्य पदांश 452 47

क्षेत्र 34 1

खड 938 1 ⇨

### खँगड

खौंड 280 13

### खँगड

डला 938 21

देश 34 10

नगर खड 619 5

नियम धारा 879 2

पारा 739 4

मित्र संख्या 949 16

मजिल 612 1

विकास स्थिति 534 5

### खँगड काव्य

खड काव्य 451.10 ⇨

### खँगड खँगड

भंजित 539 12

### खँगड प्रास

अश ग्रहण 62

### खँगडज

गुड 280 14

### खँगडता

अशता 939 1

### खँगडन

खडन 326.3 ⇨

नास्तिकतावाद 760 14

निरसन 338 9

भंजन 539 1

मुकरन 338 10

संदेह निवारण 340.7

### खँगडन (बै.)

प्रतिरोध 329 4

### खँगडन करना

खडन करना 326 9 ⇨

### खँगडन कर्ता

खडन कर्ता 326.18 ⇨

### खँगडन कर्ता: मत

उत्तर पक्ष 324 13

### खँगडन न करना

खडन न करना 326 11 ⇨

### खँगडन मंडन

वाद विवाद प्रतियोगिता 324 4

### खँगडन मिश्र

खडन कर्ता 326 18

### खँगडपरशु

परशुराम अवतार 769 28

राहु 6 4

विष्णु 768.1

शिव 767 1

### खँगड मांस

मांस खड 206 25

### खँगडरण

दहन 539 3

### खँगडरिच

खजन 126 24

### खँगडरु

छपी चादर 593.21

### खँगड लयण

काला नमक 279 6

### खँगडला

कतला 938 5

### खँगडशः

आशिकतः 939 20

### खँगडशाला

खँडसार 280 26

### खँगड संख्या

मित्र संख्या 949 16

### खँगडसार

खँडसार 280.26 ⇨

### खँगडसार

खँडसारी 280 12

### खँगडसारी

खँडसारी 280.12 ⇨

खँडसारी उद्योग 280 24

### खँगडसारी उद्योग

खँडसारी उद्योग 280.24 ⇨

### खँगड श्धुलता

गोटार्ई 965 8

### खँगडहर

खँडहर 539.5 ⇨

डहा [डही] 539 17

भगनावशेष 77 5

### खँगडहीन

अभंजित 539 13

पूर्णाशिक 940 13

### खँगडहीनता

पूर्णाशता 940.5

### खँगडोक

मित्र संख्या 949 16

### खँगडा

खडा 407 12 ⇨

खडा 924 2 ⇨

### खँगडाधीश

जनपद समूह प्रसासक 891.6

### खँगडाली

तलीया 18 8

तालाब 18 10

प्राकृतिक जलाशय 18 5

### खँगडित

नष्ट 531 7

निरस्त 338 39

भंजित 539 12

### खँगडित करना

भंजित करना 539 8

### खँगडित होना

टूटना फूटना 539 10

### खँगडीकरण

चूर्णन 540 1

### खँगडीय

आशिक 939 11

खडीय 938 50 ⇨

### खँगडीयता

अशता 939 1

क्षेत्र स्तरीयता 35 1

### खँगडतरा

छिछला गड्ढा 15 3

### खँगटा

खना 559 11 ⇨

गड्ढा 15 1

### खँगटी

खती 559.12 ⇨

खनि कर्मी 1018 8

छिछला गड्ढा 15 3

लीयर 1062.3

### खँगडक

खाई 15 8

खान 92 14

### खँगडक

गहरा गड्ढा 15.2

### खँगडक

पुल नीचे मार्ग 1065 14

मोरचा 907 10

सुरग 1065 1

सैनिक खात 604.21

### खँगधार

सेना छावनी 933 7

### खँगबा

स्मारक स्तंभ 255 13

### खँगभा

आधार सूची 596.2

तंबू खंभा 600 24

मकरी 1073 36

स्तंभ 607.7

### खँगसन

धंसन 1031 8

### खँगखट

कर्कश 838.10

खड़िया मिट्टी 100 13

### खखरा

बॉस बेट टोकरा 677.4

### खखरा [खखरी]

छिद्रिल 271 24

### खखार

कफ 215 16

### खखार कर्म

खखार कर्म 215 21 ⇨

### खखंगा

आकाश गंगा 1 14

### खखग

उड्डयनशील 1030 32

ग्रह 7 2

पक्षी 126 1

बाण 926 16

सूर्य 8 1

### खखगनाथ

गरुड 777 15

### खखगराज

गिद्ध 126 26

### खखगयती

पृथ्वी 9 1

### खखगवन

पक्षी अभयारण्य 12 10

### खखगांतक

गिद्ध 126 26

### खखगारण्य

पक्षी अभयारण्य 12 10

### खखगालय

दरवा 603 14

### खखगाभय

पक्षी अभयारण्य 12 10

### खखगासन

विष्णु 768.1

### खखगिनी

मादा पक्षी 126 2

### खखगी

मादा पक्षी 126 2

### खखगेंद्र

गरुड 777.15

### खखगोल

खगोल 1 2 ⇨

ब्रह्मांड 1.1

### खखगोलज्ञ

खगोल विज्ञानी 1 5

### खखगोल ज्योतिष

खगोल विज्ञान 1 4

### खखगोल भिति

खगोल वेध 1 6

### खखगोल यात्री

अंतरिक्ष यात्री 1087 24

### खखगोल विज्ञान

खगोल विज्ञान 1.4 ⇨

### खखगोल विज्ञानी

खगोल विज्ञानी 1.5 ⇨

### खखगोलभिव

खगोल विज्ञानी 1.5



<b>खगोल वेध</b>	<b>खज़ांची</b>	<b>तुकतुकाहट</b> 297 26	<b>खटाना</b>
खगोल वेध 16 ⇨	कोशाध्यक्ष 630 12	दस्तक 296 5	अजित कराना 648 5
<b>खगोल वैज्ञानिक</b>	<b>खजा</b>	<b>खटखटा</b>	खट्टा होना 277 17
खगोल विज्ञानी 15	युद्ध 905 4	खटखटा 550 6 ⇨	सही आकार होना 961 15
<b>खगोलिकी</b>	यध 251 3	खटखटा 609 12 ⇨	<b>खटारा</b>
खगोल विज्ञान 14	<b>खजाना</b>	<b>खटखटाहट</b>	जर्जर गाड़ी 1071 31
<b>खगोलीय</b>	कोश 630 1	खटखटाहट 297.6 ⇨	ठेला 1071 6
अतरिक्ष गामी 1081 54	कोशागार 630 3	दस्तक 296 5	हरी इमली 277 9
अतरिक्ष यात्रीय 1087 38	धन संपत्ति 624 10	<b>खटखादक</b>	<b>खटास</b>
<b>खगोलीय एकक</b>	भंडार 670 3	कोंच बरतन 680 2	अम्ल 87 8
अतरिक्षीय एकक 959 29	संग्रहालय 669 8	गीदड़ 127 75	खटास 277 1 ⇨
<b>खगोलीय कटिबंध</b>	<b>खजुरहट</b>	<b>खटना</b>	दही जमाई द्रव्य 554 11
राशिचक्र 4 4	खजूर कुज 12 23	अति परिश्रम करना 493 7	रुष्टि 374 2
<b>खग्रामस</b>	<b>खजुरहटी</b>	अजित करना 648 4	<b>खटिका</b>
सर्व ग्रहण 6 3	खजूर कुज 12 23	<b>खटपट</b>	खड़िया मिट्टी 100 13
<b>खचन</b>	<b>खजुराही</b>	खटपट 708 3 ⇨	<b>खटिया</b>
खचन 406 27 ⇨	खजूर कुज 12 23	तकरार 708 7	छोटी खाट 594 8
पच्चीकारी 406 32	<b>खजूर</b>	वैमनस्य 706 10	<b>खटीक</b>
रचना विन्यास 527 8	खजूर 190 14 ⇨	<b>खटपटिया</b>	मास विक्रेता 206 41
विजड़न 1016 1	खाद्य फल सूची 190 2	कलहप्रिय 708 13	सक्की विक्रेता 663 16
<b>खचन करना</b>	पुहारा 191 8	खड़ाऊँ 588 11	<b>खटोलना</b>
खचन करना 406 38 ⇨	मेना सूची 191 2	गुटबाज़ 885 39	खटोला 594 5
<b>खचना</b>	<b>खजूर कुज</b>	तकरारी 708 14	<b>खटोला</b>
अटकना 1024 9	खजूर कुज 12 23 ⇨	<b>खटपाटी</b>	खटोला 594 5 ⇨
तल्लीन होना 331 9	<b>खजोहरा</b>	खाट पाटी 594 18	सप्तर्षि मडल 3 10
<b>खद्यमस</b>	कनखजूरा 122 13	<b>खटमल</b>	<b>खट्टा</b>
घट्टमा 8 2	<b>खज्योति</b>	कीट सूची 122 12	सिरका 277 15
<b>खधर</b>	जुगनु 122 22	खटमल 122 17 ⇨	<b>खट्टा [खट्टी]</b>
भूत 786 1	<b>खट</b>	<b>खटमिटठा [खटमिट्टी]</b>	किण्वित 195 59
<b>खद्याख्य</b>	कफ 215 16	खटमिटठा [खटमिट्टी] 277 20 ⇨	<b>खट्टा [खट्टी]</b> 277 19 ⇨
अत्याधिक जनाकीर्ण 616 30	जलहीन कूप 19 5	<b>खटमिट्ठापन</b>	<b>खट्टा करना</b>
दुँसा [दुँसी] 1004 14	मुक्का 150 7	खटमिट्ठापन 277 2 ⇨	किण्वित करना 195 44
दुँसादुँस 1004 18	<b>खटकता [खटकती]</b>	<b>खटमीठा [खटमीठी]</b>	खट्टा करना 277 18 ⇨
<b>खद्याना</b>	पीड़ाप्रद 392 26	खटमिट्ठा [खटमिट्टी] 277.20	<b>खट्टापन</b>
उत्कीर्ण करना 406 36	<b>खटकना</b>	<b>खटर पटर</b>	खटास 277 1
खचन करना 406 38	अप्रिय होना 370 3	खटराग 747.4	<b>खट्टा पानी</b>
विजड़ित करना 1016 36	घुमना 270 11	<b>खटराग</b>	पित्त पानी 215 15
<b>खद्यावट</b>	मित्रता दूटना 705 24	खटराग 747 4 ⇨	<b>खट्टा मीठा [खट्टी मीठी]</b>
खचन 406 27	शत्रुता होना 706 11	बड़ राग 457 21	खटमिट्ठा [खटमिट्टी] 277.20
<b>खधित</b>	<b>खटकरम</b>	<b>खटला</b>	<b>खट्टा लगना</b>
उत्कीर्ण 406 41	खटराग 747 4	परिवार 726 1	खट्टा लगना 277 16 ⇨
खधित 406 42 ⇨	<b>खटका</b>	<b>खटयारी</b>	<b>खट्टा स्वाद</b>
खॉयेदार 970 13	आशका 377 1	बोरिया विस्तर 593 61	खटास 277 1
धिद्विनत 407 23	आहट 297 1	<b>खट से</b>	<b>खट्टा होना</b>
पच्चीकृत 406.43	खटका 609 19 ⇨	शीघ्रत 496 13	खट्टा होना 277 17
विजड़ित 1016 42	खटखटा 550 6	<b>खटाई</b>	<b>खट्टिक [खट्टिका]</b>
<b>खधेड़</b>	खटखटाहट 297 6	अमहर 277 5	पक्षी आखेटक 252 11
घिसट 1051 9	टिंगर 1046 10	खटाई 277 12 ⇨	<b>खट्टिका</b>
<b>खधर</b>	बदक़ घोड़ा 927.7	खटास 277 1	छोटी खाट 594.8
खधर 127 32 ⇨	स्विच 1046 12	<b>खटाई (दे. अमहर)</b>	<b>खट्टा</b>
<b>खजका</b>	<b>खटका: छल्ला</b>	खटाई 277 12	रस्सी झूला 1034 5
मंथन दंड 554 14	खटका छल्ला 1016.30 ⇨	<b>खटाई में डालना</b>	<b>खट्टा होना</b>
<b>खजल</b>	<b>खटकाना</b>	स्थगित करना 495 7	खट्टा होना 277 17 ⇨
ओस 90 11	उकसाना 499.6	<b>खटाक से</b>	<b>खट्टाजा</b>
<b>खजहजा</b>	<b>खटक्किका</b>	शीघ्रत 496 13	खट्टाजा 610.4 ⇨
खाद्य फल 190 1	खिड़की 608 17	<b>खटाका</b>	<b>खट्टकना</b>
<b>खजौंची</b>	<b>खटखट</b>	खटखटाहट 297 6	शत्रुता होना 706.11
कैशियर 630.13	खटखटाहट 297 6		

## खड़का

### खड़का

आहट 297 1  
खटखटाहट 297 6

### खड़खड़

खड़खड़ाहट 297 7

### खड़खड़ाना

पल्लव गिरना 117 16

### खड़खड़ाहट

खड़खड़ाहट 297 7 ⇨

### खड़खड़िया

ठेला 1071 6

### खड़ग

खड़ग 924 3

### खड़गी

खड़गधारी 930 8

### खड़ताल

करताल 461 25

### खड़न

उठ खड़न 1029 2

### खड़राग

खटराग 747 4

### खड़ा [खड़ी]

अनमित 1025 9  
अपराजित 913 6  
अप्रवाहित (जल) 21 40  
आधारित 1019 17  
उत्प्रेरित 499 8  
उद्यत 491 15  
उन्नमित 1025 7  
ऊर्ध्वमुख 1023 13  
खड़ा [खड़ी] 1029 11 ⇨  
तीव्र चक्रानयुक्त 988 12

### खड़ा [खड़ी]

निश्चल 1038 8

### खड़ा [खड़ी]

प्रतिरोधी 915 11  
प्रवाहहीन 1041 9  
प्रोद्गत 988 10  
भुगतान अकृत 639 17

### खड़ा [खड़ी] (दाल)

अधगला [अधगली] 197 33

### खड़ाऊँ

खड़ाऊँ 588 11 ⇨

### खड़ा करना

भवन बनाना 598 12  
संस्थापित करना 693 5

### खड़ा तट

खड़ा तट 25 16 ⇨

### खड़ापन

ऊर्ध्वमुखता 1023 3  
खड़ापन 1029 3 ⇨  
निश्चलता 1038 2  
प्रतिक्षिजता 1020 4  
लबता 968 33

### खड़ा पानी

प्रवाहहीन जल 21 12

### खड़ा भोज

लंब रेखा 968 34

### खड़ा रहना: मुद्रा

खड़ा रहना मुद्रा 1029 4 ⇨

### खड़ा होना

उठ खड़ा होना 1029 8  
ऊर्ध्वमुख होना 1023 7  
गति स्तम्भ होना 1047 17

### खड़ा होना

निर्गमन लड़ना 888 29

### खड़ा होना: शैली

मडल 464 24

### खड़िका

खड़िया मिट्टी 100 13

### खड़िया

खड़िया मिट्टी 100 13

### खड़िया मिट्टी

खड़िया मिट्टी 100.13 ⇨

### खड़ी

खड़िया मिट्टी 100 13

### खड़ी काट

खड़ी काट 543 5 ⇨

### खड़ी कूद

खड़ी कूद 1086 7 ⇨

### खड़ी दुपहरी

तप्त मध्याह्न 47 10

### खड़ी पाई

सीधी रेखा 968 16

### खड़ी फसल

खड़ी फसल 547 4 ⇨

### खड़ी बोली

खड़ी बोली 421 12 ⇨

### खड़ी बोली (दे.)

हिंदी 421 17

### खड़ी रेखा

ऊर्ध्व रेखा 968 18

लंब रेखा 968 34

### खड़ी लकड़ी

चौखट पार्श्व काष्ठ 609 4

### खड़ी संख्या

घटान फल 954 9

### खड़ी स्थिति

खड़ापन 1029 3

स्थानक 464 26

### खड़े

ऊर्ध्वमुखत 1023 17

### खड़े रहना

निश्चल रहना 1038 6

### खड़ग

खड़ग 924 3

### खड़गकोश

म्यान 924 12

### खड़गधारी

खड़गधारी 930 8

### खड़गधेनु

कृपाण 924 1

### खड़गी

खड़गधारी 930 8

गैडा 127 84

### खड़ड

खड़ड 15.7 ⇨  
गहरा गड़डा 15 2

### खड़डी

करघा 562 15

### खड़ग

खड़ग 924 3 ⇨

### खड़गधारी

खड़गधारी 930 8 ⇨

### खड़गमुष्टि

तलवार भूठ 924 11

### खत

क्रलम जीभ काट 416 4

नई कोमल दाढ़ी 136 4

पत्र 444.1

रेखा 968 6

हस्तलेख 412 6

हुलिया 317 11

### खत की पेशानी

ऊपरी हाशिया 1000 13

### खतना

खतना 798 26 ⇨

### खतना करना

खतना करना 798 38 ⇨

### खतना किया

खतना कृत 798.47

### खतना कृत

खतना कृत 798 47 ⇨

### खतरनाक

जोखिमपूर्ण 519 20

भयानक 395 25

### खतरनाक

मारक 251 24

सकटात्मक 909 21

### खतरा

आशका 377 1

जोखिम 519 5

भय 395 1

सकट 909 1

### खतरा: घंटी

खतरा घंटी 461 31 ⇨

### खतरा: निशान

सकट संकेत 909 9

### खतरे की घंटी

सकट संकेत 909 9

### खतरे की झंडी

लाल झंडी 1067 15

### खता

अपराध 861 1

भूल 498 3

### खताधार

अपराधी 861 14

भूल कर्ता 498 7

### खतिया

छिछला गड़डा 15.3

### खतियाना

लेखा प्रविष्टि करना 632 36

### खतियोनी

जमाखर्च बही 632 15

### खतियोनी करना

लेखा प्रविष्टि करना 632.36

### खतिलक

सूर्य 8 1

### खतो किताबत

पत्र व्यवहार 444 5

### खतानी

जमाखर्च बही 632 15

पटवारी बही 553 12

### खतानी करना

लेखा प्रविष्टि करना 632 36

### खत्ता

कूड़ेखाना 218 20

क्षेत्र 34 1

खत्ता 15 4 ⇨

खत्ती 670 12

गड़डा 15 1

### खत्ती

खत्ती 15.5 ⇨

खत्ती 670.12 ⇨

छिछला गड़डा 15 3

### खत्त्व

अतगत 995 12

अतगत 995 12

नष्ट 531 7

मृत 249 23

समाप्त 942 20

समाप्त (कार्य) 522 4

### खदबद

खदबदाय 91 5

### खदबदाय

खदबदाय 91 5 ⇨

### खदबदाहट

खदबदाय 91 5

### खदशरा

आशंका 377 1

### खदान

खान 92 14

### खदान मज़दूर

खनिक 92.18

### खदिर सार

कत्था 213.21

### खदीजा

खदीजा 791.14 ⇨

मुहम्मद प्रथम पत्नी 791 21

### खदेड़

निष्कासन 1092.10

हॉका 252 5

### खदेड़ना

निकाल भगाना 1092 14

विस्थापित करना 1036.12

हॉका करना 252.29

### खदेड़ा [खदेड़ी]

निष्कासित 1092.18

### खहर

खादी 580.9

खुरदुरा वस्त्र 579 4  
**खद्योत**  
 जुगनु 122.22  
 सूर्य 8 1  
**खन**  
 मजिल 612 1  
**खनक**  
 खनखनाहट 297 8  
 खनन कर्मी 1018 7  
 खनि कर्मी 1018 8  
**खनखन**  
 खनखनाहट 297 8  
 ठनठनाहट 297 25  
**खनखनाहट**  
 खनखनाहट 297 8 ⇨  
**खनन**  
 खनन 1018 1 ⇨  
 खनि कर्म 92 17  
 निखनन (गडाई) 1018 3  
**खनन करना**  
 खोदना 1018 11  
**खनन कर्ता**  
 खनन कर्मी 1018 7  
**खनन कर्मी**  
 खनन कर्मी 1018 7 ⇨  
**खनन श्रमिक**  
 खनि कर्मी 1018 8  
**खनना**  
 खोदना 1018 11  
**खनि**  
 खान 92 14  
 गड्ढा 15 1  
 भूगर्भ 9 6  
**खनिक**  
 खनन कर्मी 1018 7  
**खनिक 92.18** ⇨  
 खनि कर्मी 1018 8  
**खनि कर्म**  
 उत्खनन 1018.2  
**खनि कर्म 92 17** ⇨  
**खनि कर्मी**  
 खनि कर्मी 1018.8 ⇨  
**खनिज**  
 खनिज 92 1 ⇨  
**खनिज कर्म**  
 खनि कर्म 92 17  
**खनिज कोयला**  
 पत्थर कोयला 110 8  
**खनिज तेल**  
 खनिज तेल 110.16 ⇨  
**खनिज नमक**  
 संधा नमक 279 9  
**खनिज पदार्थ**  
 खनिज 92 1  
**खनिज रंग**  
 खनिज रंग 290.2 ⇨  
**खनिज रसायन**  
 पेट्रो रसायन 110.19

**खनिज रेत**  
 खनिज रेत 100.2 ⇨  
**खनित**  
 खनित 10.2 15 ⇨  
**खनिता**  
 खनन कर्मी 1018 7  
**खनित्**  
 खनन कर्मी 1018.7  
**खनित्र**  
 खता 559 11  
**खनित्री**  
 खती 559 12  
**खनियाना**  
 खोद कर निकालना 1018 12  
 खोदना 1018 11  
**खभा**  
 कुटाई ठीहा 596 13  
**खपघ**  
 खपघ 938 10 ⇨  
 गोंस 938 12  
**खपघा**  
 काठ कलछी 681 6  
**खपघी**  
 खपघी 938 11 ⇨  
 खपघी 597.15 ⇨  
 छीलन 938 19  
 ढोल डग्गा 461 96  
 शलाका 597 16  
**खपघ्ची**  
 खपघी 938 11  
 छीलन 938.19  
 स्टिलट 174 10  
**खपटा**  
 काकरोच 122 14  
**खपटी**  
 खपघी 938 11  
**खपडा**  
 कच्छप पृष्ठ 134 19  
**खपडा**  
 काकरोच 122.14  
 खप्पर 683 9  
 निघली खपरैल 599 34  
 मृद्भाडाश 77 6  
**खपड़ी**  
 ऊपरली खपरैल 599 33  
 भड़भूजा कडाह 682 6  
**खपड़ी**  
 नारियल खोपड़ी 112 5  
**खपत**  
 उपभोग 524 1  
 खपत 644 6 ⇨  
 धिक्कय 661.1  
**खपत कर्ता**  
 खपत कर्ता 644.26 ⇨  
**खपना**  
 उपभुक्त होना 524 9  
 खपना 644.16 ⇨  
 परिश्रम करना 493 6

युद्ध मे मरना 249 20  
 व्यय होना 644 12  
 समाप्त होना 942 12  
 हत होना 249 19  
**खपरट**  
 मृद्भाडाश 77 6  
**खपरा**  
 कपाल 133 6  
 खप्पर 683 9  
**खपरिया**  
 कीट सूची 122 12  
 सग बसरा 99.8  
**खपरैल**  
 ऊपरली खपरैल 599 33  
 छपर 615 1  
**खपा [खपी]**  
 खपा [खपी] 644 25 ⇨  
 समाप्त 942 20  
**खपाई**  
 अपध्यय 644 3  
**खपाऊ**  
 अपध्ययी 644 24  
 व्ययशील 644 22  
**खपाघ**  
 खपघी 938 11  
**खपाघी**  
 खपघी 938 11  
**खपाना**  
 अपव्यय करना 644 15  
 उपभोग करना 524 10  
 बेचना 661 20  
**खपिंड**  
 आकाश पिंड 3 1  
**खप्पर**  
 कच्छप पृष्ठ 134 19  
 कटोरा 683 1  
 कपाल 133 6  
 कपालास्थि कटोरा 683 5  
 कमडलु 642 13  
 खप्पर 683.9 ⇨  
 छप्पर 615 1  
 नारियल खोपड़ी 112 5  
 नारियल बरतन 680 5  
 भिक्षा भांड 642 11  
**खप्पर वाली**  
 काली 776 3  
**खप्परकान**  
 रोग भ्रम 353 7  
**खप्परगी**  
 क्रोध 373 1  
 झल्लाहट 373 10  
 रुष्टि 374 2  
**खप्पा**  
 क्रुद्ध 373 28  
**खप्पा**  
 रुष्ट 374 17  
**खप्पीक**  
 हलका [हलकी] 963 14

**खबर**  
 घेतना 263 4  
 परिज्ञान 305 13  
 मुनादी 441 11  
 सदेश 443 1  
 समाचार 440 1  
 सूचना 44 1  
**खबरदार**  
 युद्ध सन्नद्ध 907 43  
**खबरदार करना**  
 घेतावनी देना 917 10  
**खबरदारी**  
 युद्ध सन्नद्धता 907 5  
 सावधानी 497 1  
**खबर न होने देना**  
 गुप्तत करना 824 15  
**खबररसी**  
 सदेश वाहक 443 3  
**खबरुआ**  
 गुप्ताघर 866 12  
**खबरुआ**  
 सजापक 441 20  
**खबीस**  
 घृणित 370 6  
 मस्तिन 217 6  
**खब्त**  
 उन्माद 354 4  
 खब्त 353 11 ⇨  
**खब्दीपन**  
 हठीलापन 349 5  
**खब्बा [खब्बी]**  
 बर्येहस्था 487 30  
 वाम पार्श्वीय 997 22  
**खब्बापन**  
 बर्येहस्थापन 487 11  
**खब्बे**  
 बाएँ 1098 31  
**खमंडल**  
 खगोल 1 2  
**खम**  
 अलबेट 975 10  
 अयनमित, 1025 8  
 बाहु 149 6  
 यक्र 974 16  
 यक्रता 974 1  
**खम ठोकना**  
 अखाड़े मे उतरना 486.23  
 पुट्टे ठोकना 917.8  
**खमग ठोकला**  
 ठोकला 202 10  
**खमध्य**  
 उच्चता उपमान सूची 982 13  
 खमध्य 2.5 ⇨  
**खमध्य दिशा**  
 उच्च दिशा 982 4  
**खमधीय**  
 खमधीय 2.10 ⇨

## खमली बैठक

### खमली बैठक

बैठक सूची 485 12

### खमार्ग

अतरिक्ष मार्ग 1066 3

### खमियाज़ा

दड 870 1

प्रतिफल 510 3

### खमीर

खमीर 195 12 ⇨

### खमीर उठाना

किण्वित करना 195.44

### खमीरा [खमीरी]

किण्वित 195 59

### खमीरीकरण

किण्वन 195 10

### खम्माच

राग रागिनी सूची 457 24

### खयानत

गबन 865 7

छल 827 7

बधक द्रोह 633 23

बेईमानी 816 2

### खयाल

अनुपेक्षा 184 2

अनुमान 308 8

कल्पना 308 1

प्रेरणा 499 1

मत 343 1

राग गायन शैली सूची 460 39

विचार 330 1

स्मृति 356 1

### खयाल से

अनुमानत 308 22

### खयाली

काल्पनिक 308 18

### खयाली पुलाव

दिवा स्वप्न 267 2

मनोकल्पना 308 5

### खयाली पुलाव पकाना

दिवा स्वप्न देखना 267 7

### खयाले खाम

असंगत विचार 330 3

### खय्याम

तबू व्यवसायी 600 6

### खरंजा

ईट सड़क 1063 41

खरंजा 610 4

### खर

क्रोध 126 23

खप्पर 127.32

खुरदुरा [खुरदुरी] 269 19

गधा 127 30

बगला 126 54

### खर-

बुरा उपसर्ग सूची 314 11

### खर

राक्षस सूची 784 4

### खरक

चरागाह 556 10

डडा परकोटा 604 12

### खरका

खर पतवार 548 32

### खरगोश

खरगोश 127 63 ⇨

घट्टमा कलक 8 8

### खरचना

उपभोग करना 524 10

### खरज

षड्ज स्वर 459 7

### खर दूषण

असुरादि जोड़ी सूची 783 4

### खरपच्ची

खपची 938 11

खपची 597.15

छीलन 938 19

### खर पतवार

खर पतवार 548 32 ⇨

### खर पतवार निकालना

निराना 548 45

### खरपात

खर पतवार 548 32

### खरपाल

काठ बरतन 680 3

### खरब

खरब 948 81 ⇨

### खरबिरई

पत्रौषध 176 5

### खरबूजा

कटोरी कली 585 69

### खरबूजा

खरबूजा 190 15

### खरबूजा

खरबूजा 190 15 ⇨

### खरबूजा

खाद्य फल सूची 190 2

### खर मंडल

गण्ड चौथ 294.11

### खरमस्ती

कामुकता 237 6

### खरल

खरल 560 11 ⇨

### खरगम्ब

क्रोध 126 23

### खरहरा [खरहरी]

खुरदुरा [खुरदुरी] 269 19

### खरहा

खरगोश 127 63

### खरही

ओसाई 548 22

### खरा [खरी]

ईमानदार 815 7

उत्तम 313.11

उत्तीर्ण 322 39

खरा [खरी] 98 12 ⇨

महान 839 8

विशुद्ध 219 7

सदाशय 817 10

### खरा उतरना

उत्तीर्ण होना 322 36

### खरा खेल

ईमानदारी 815 2

### खरा खोटा

विपरीतता उपमान सूची 310 13

### खरा खोटा [खरी खोटी]

उत्तम अनुत्तम 313 10

### खरा चौंदी सोना

खरा चौंदी सोना 95 2 ⇨

### खराद

खराद 559.13 ⇨

### खराद कर्म

खराद कर्म 564 3 ⇨

### खराद कर्मी

खराद कर्मी 564 4 ⇨

### खरादना

खरादना 564.10 ⇨

### खरादिया

खराद कर्मी 564 4

### खरादी

खराद कर्मी 564 4

### खरापन

धातु खरापन 98 4

महानता 899 1

### खराब

अनुपयोगी 525 8

अवनत 535 5

अवमानक 957 9

उच्छिष्ट 198 11

दुर्गुणी 314 8

दुर्घरित्र 811 5

निकृष्ट 314 5

पूयित 169 15

बुरा [बुरी] 314.10

विकृत (यत्र) 536 10

### खराब दिन

वर्षा दुर्दिन 54 4

### खराब होना

यत्र विकृत होना 536 5

### खराबा

ऊसर 552 3

निकृष्टता 314 1

### खराबाली

मद्यासक्त 209 44

वेश्यागामी 807 16

### खराबी

दुर्गुण 314.4

निकृष्टता 314 1

यत्र विकृति 536 2

रोग 163 1

### खराबी कुधार

मरम्भत 538 1

### खराबि

बलराम 771 74

राम 770.1

### खरालिक

किट बैग 673 6

### खरारा

खरोच 270 2

### खराश

खॉंसी 163 14

### खरारा

खुजली 165 3

### खरा सोना

शुद्ध स्वर्ण 95 5

### खरिया

खड़िया मिट्टी 100.13

खरिया 573 19 ⇨

थैली 673 12

### खरी

मादा गधा 127 31

### खरीक

तिनका 938 23

### खरी खरी

स्पष्टोक्ति 430 4

### खरी खोटी

कटु वचन 432 3

डॉट 373 11

स्पष्टोक्ति 430 4

### खरी खोटी सुनाना

कटु भाषण करना 432 8

डॉटना 3/3 25

### खरीता

कागज़ पटल 990 5

खरीता 444 2 ⇨

जेब 672 1

दर्जी थैली 673 15

दस्तावेज़ 412 19

### खरीद

क्रय 660 1

क्रीत सामान 660 4

### खरीददार

क्रेता 660 3

ग्राहक 660 13

### खरीददारी

ग्राहकता 660 12

### खरीदना

क्रय करना 660 14

### खरीदना

दास बनाना 651 24

### खरीदना

लुब्ध करना 359 16

सम्भोहन करना 367 5

### खरीदना बेचना

विपणन करना 658 10

### खरीदने लायक

क्रेय 660 18

### खरीदने वाला

क्रेता 660.3

### खरीद करीक

विपणन 658.1

### खरीद थिक्की बही

खरीद थिक्की बही 632.14 ⇨

**खरीद बेच**  
विपणन 658 1  
**खरीद बेची बही**  
खरीद बिक्री बही 632 14  
**खरीदा [खरीदी]**  
क्रीत 660 17  
**खरीदा बेचा**  
विपणित 658 13  
**खरीदार**  
क्रेता 660.3  
ग्राहक 660 13  
**खरीदार बिकवाल**  
विपणक 658 2  
**खरीदारी**  
ग्राहकता 660 12  
**खरीदारी धैला**  
शीपिंग बेग 673 10  
**खरीदी**  
क्रय 660 1  
**खरी धातु**  
खरा चाँदी सोना 95 2  
**खरीफ़**  
खरीफ़ फसल 547 7  
फसल मौसम सूची 547 6  
**खरीफ़ फ़सल**  
खरीफ़ फसल 547 7 ⇨  
**खर**  
स्वयवरा 799 19  
**खरेरा [खरेरी]**  
खरदुवा [खरदुरी] 269 19  
**खरोच**  
कुरेद 406 26  
खरोच 270 2 ⇨  
**खरोचना**  
उत्कीर्ण करना 406 36  
कुरेदना 406 37  
खरोचना 270 12 ⇨  
**खरौंट**  
खरोच 270 2  
**खरौंटना**  
खरोचना 270 12  
**खरोष्ठी**  
खरोष्ठी 409 7  
**खरोष्ठी**  
खरोष्ठी 409 7 ⇨  
**खरोष्ठी लिपि**  
खरोष्ठी 409 7  
**खर्च**  
उपभोग 524 1  
खपत 644.6  
खपा [खपी] 644.25  
घटा प्रविष्टि 632 6  
व्यय 644 1  
व्ययित 644 18  
**खर्चना**  
व्यय करना 644 13  
**खर्च होना**  
उपभुक्त होना 524 9

**खर्चा**  
व्यय 644 1  
**खर्ची**  
व्ययशील 644 22  
**खर्चीला [खर्चीली]**  
व्ययशील 644 22  
व्ययसाध्य 644 20  
**खर्जु**  
खारिश 165 2  
**खर्जूर**  
खजूर 190 14  
चाँदी 95 3  
**खर्जूर रस**  
ताड़ निर्यास 84 9  
**खर्पट**  
कपाल 133 6  
**खर्पर**  
कपाल 133 6  
दुर्जन 818 5  
**खर्परिका**  
छतरी 584 32  
**खर् खर्**  
खर्टा 266 9  
**खर्टा**  
कुटिल 818 7  
दोबबाज़ 819 19  
**खर्टा**  
खर्टा 266 9  
**खर्ता**  
दस्तावेज़ 412 19  
प्रालेख 520 10  
लेखा चिट्ठा 632 22  
विवरण 449 8  
**खर्ताच**  
व्ययशील 644 22  
**खर्टाटा**  
खर्टाटा 266 9 ⇨  
**खर्तात**  
खराद कर्मी 564 4  
**खर्ताती**  
खराद कर्म 564 3  
**खर्ताद**  
खराद कर्मी 564 4  
**खर्व**  
कुबेर नवनिधि सूची 779 12  
खरब 948 81  
**खर्वट**  
जनपदालय 620 16  
पर्वत ढाल 16 12  
मड़ी 663.8  
**खर्विता**  
घतुर्दशीयुक्त अमावस्या 44 22  
**खल**  
अकल्याणकारी 711 9  
अनैतिक 816 4  
अप्रिय 370.5  
अहितकारी 712 15  
खरल 560.11

घुणित 370 6  
चुगलखोर 843 26  
तलछट 526 7  
दुर्जन 818 5  
दुष्कर्मी 812 15  
धृति पुज 100 6  
निकृष्ट 314 5  
बुरा [बुरी] 314 10  
**खल-**  
बुरा उपसर्ग सूची 314 11  
**खल**  
लज्जाहीन 846.8  
**खलता**  
अपकारिता 831 5  
दुर्जनता 818 1  
निकृष्टता 314 1  
**खलधान्य**  
अनाज गोदाम 670 18  
**खलना**  
अप्रिय होना 370 3  
घुभना 270 11  
**खलनायक**  
खलनायक 467.9 ⇨  
प्रेम प्रतिद्वंद्वी 368 4  
**खलनायिका**  
खलनायिका 467 13 ⇨  
प्रेम प्रतिद्वंद्विनी 368 5  
**खलबल**  
आदोलन 902 8  
**खलबलाना**  
उद्विग्न होना 377 7  
खलना 91 9  
**खलबली**  
अस्थिरचित्तता 355 3  
आदोलन 902 8  
उद्विग्नता 377 4  
उद्वेग 377 3  
हड़बड़ी 496 5  
**खलभल**  
हड़बड़ी 496 5  
**खलभली**  
आंदोलन 902 8  
**खलभूर्ति**  
पारा 94.9  
**खलल**  
ध्यान विघ्न 331 5  
विघ्न 1047.12  
**खल्ला**  
निर्वात 1005.4  
पोल 271 17  
रिक्तता 1005 1  
शून्य स्थान 33.4  
स्थान 33 1  
**खलाधार**  
दुरधरित्रता 811 1  
**खलास**  
अंडाकर्षित 238 19

**खलास**  
सारहीन 84 20  
**खलासी**  
कुली 1061 4  
खलासी 1080.22 ⇨  
**खलियान**  
अनाज गोदाम 670 18  
ओसाई स्थान 548 25  
**खलिवा**  
सुभन 270 1  
प्रतिशोध भावना 873 3  
शारीरिक पीड़ा 392 4  
**खलिहान**  
अनाज गोदाम 670 18  
ओसाई स्थान 548 25  
**खली**  
खली 556.6 ⇨  
**खलीज**  
खाड़ी 24 5  
**खलीकतुल मुसलिमीन**  
खलीफ़ा 744 17  
**खलीफ़ा**  
खलीफ़ा 744 17 ⇨  
प्रतिनिधि सूची 888.27  
प्रवीण व्यक्ति 303 9  
विशेषज्ञ 305 36  
**खलु**  
शाबाशी उद्गार सूची 841 40  
**खलुरिका**  
शस्त्र अभ्यास स्थल 930.3  
**खलुरी**  
शस्त्र अभ्यास स्थल 930 3  
**खल्ल**  
ब्रह्मांड 1 1  
**खल्लकत**  
जीव जगत 121 3  
**खल्लमल्ल**  
क्रमहीन 992 5  
**खल्ल**  
जलप्रीवा 24 10  
त्यथा 134 1  
नहर 23.3  
**खल्लीट**  
गजा 137.30  
**खल्ल्याट**  
केराहीन सिर 137 17  
गजा 137 30  
गजापन 137 16  
टाँट 140 4  
**खवा**  
स्कंध 147 3  
**खवाना**  
खिलाना 183.36  
**खवारि**  
कोहरा 90.10  
**खवास**  
दरबार सदस्य 889.15  
दाँसी 851.10

## खविद

### खविद

खगोल विज्ञानी 15

### खविधा

खगोल विज्ञान 14

### खशा

खशा 787.13 ⇨

राक्षस स्त्री सूची 784.23

### खशा संतति

यक्ष 779.1

### खस

खस की टट्टी 605.10

### खस

खस टट्टी 105.8

### खस

गोंडर घास मूल 112.15

### खस की टट्टी

खस की टट्टी 605.10 ⇨

### खसखस

खसखस 281.13 ⇨

खसखस 962.33 ⇨

### खसखसा

खसखस 962.33

खसखसा [खसखसी]

दरदरा [दरदरी] 540.18

### खसखाना

खसखाना 105.9 ⇨

### खसखाना

शीतल कक्ष 614.7

### खसः टट्टी

खस टट्टी 105.8 ⇨

### खसम

पति 803.5

### खसमपीटी

विधवा 804.15

### खसरा

पटवारी बही 553.12

लेखा चिट्ठा 632.22

### खसलत

लक्षण 317.5

### खसलतन

स्वभावत 836.15

### खसिया

अडाकर्षित पशु 238.10

### खसियाना

अडाकर्षण करना 238.11

### खसियाया

अडाकर्षित 238.19

### खसी

नपुंसक 238.18

### खसीपन

नपुंसकता 238.4

### खसीस

कृपण 639.26

### खसुसियत

विशिष्टता 312.2

### खसोट

छीन 635.7

लुचन 1017.3

### खसोटना

छीनना 635.13

लुचित करना 1017.6

### खसोटने वाला

लुचक 1017.10

### खसोटा [खसोटी]

छीना [छीनी] 635.23

लुचित 1017.9

### खसोटू

छीनने वाला 635.24

### खस्ता

खस्ता 197.30 ⇨

खित्र 380.10

### खस्ता

थका [थकी] 492.15

दुर्दशाग्रस्त 627.22

### खस्ता

मोयनदार 197.21

### खस्ताहाल

दुर्दशाग्रस्त 627.22

### खस्यस्तिक

उच्यता उपमान सूची 982.13

खमध्य 2.5

### खस्सी

अडाकर्षित 238.19

अडाकर्षित पशु 238.10

नपुंसक 238.18

### खौ

प्रवीण व्यक्ति 303.9

### खौंग

उदत्त 144.5

### खौंगी

उदती (जतु) 144.19

### खौच

लीक 1063.16

### खौचना

उत्कीर्ण करना 406.36

खचन करना 406.38

यिज्ञित करना 1016.36

### खौचा

खौचा 406.28 ⇨

खौचा 970.10 ⇨

टोकरा 677.1

मुरगी टोकरा 555.6

### खौची

टोकरा 677.5

### खौचेदार

कौरुगेटिड 974.22

खौचेदार 970.13 ⇨

### खौंड

खौंड 280.13 ⇨

### खौंडव राग

मिसरी 280.19

### खौडा

खडा 407.12

### खौका

खंडा 924.2

खड्ग 924.3

### खौप

फोंक 938.29

### खौ साहब

राग गायक 460.38

### खौसी

खौसी 163.14 ⇨

### खौसी जुकाम

खौसी जुकाम 163.13 ⇨

### खौई

कटान 15.6

खौई 15.8 ⇨

परिखा 604.20

पुल नीचे मार्ग 1065.14

मोरचा 907.10

सुरग 1065.1

सैनिक खात 604.21

### खौऊ

अत्याहारी 182.15

अधिग्रहणशील 635.18

रिश्तखोर 865.26

### खौऊपन

अधिग्रहणशीलता 635.2

### खौऊ पीर

अत्याहारी 182.15

रिश्तखोर 865.26

### खौऊ मीत

सस्वार्थ मित्र 705.8

### खौए

खौए 181.69 ⇨

### खौक

दग्ध 108.13

धूलि 100.4

मिट्टी 100.8

राख 106.15

### खौक उड़ना

नष्ट होना 531.4

### खौक उड़ाना

खोज में भटकना 336.18

### खौक करना

नष्ट करना 531.5

### खौक का पुतला

मानव 128.1

### खौक छानना

खोज में भटकना 336.18

मार्ग न मिलना 1099.6

### खौक डालना

गोपन करना 824.14

विस्मरण करना 357.7

### खौकदान

कूड़ेदानी 218.21

### खौकसार

नगण्य 853.10

विनम्र 733.19

विनम्र सेवक 651.3

### खौकम

आकार चित्र 404.11

कैरिकेचर 404.13

नमूना 520.13

परिकल्प 520.6

परिकल्पना 520.5

रेखाचित्र 404.17

वर्णन साहित्य 449.3

### खौका उड़ाना

उपहास करना 844.6

### खौका खौचना

उपहास करना 844.6

### खौकान

सम्राट 882.24

### खौकी

खौकी 289.42 ⇨

मटियाला [मटियाली] 100.26

### खौगीना

आमलेट 206.9

तला अडा 206.7

### खौज

खुजली 165.3

### खौ जाना

पूरा खा जाना 181.34

### खौजि

खजूर 190.14

### खौट

खौट 594.6 ⇨

फौसी तख्ता 871.12

### खौट खटोला

खौट खटोला 594.7 ⇨

बोरिया बिस्तर 593.61

### खौट खड़ी होना

मरना 249.18

### खौट पाटी

खौट पाटी 594.18 ⇨

### खौटः पैताना

पैताना 594.21

### खौट से उतारा जाना

मरणासन्न होना 249.21

### खौट से लगना

रोगग्रस्त होना 162.4

### खौटा [खौटी]

खट्टा [खट्टी] 277.19

### खौकू

आतंकवादी 395.24

### खौका

खुली खौकी 24.6

### खौकी

खौकी 24.5 ⇨

### खौत

कूप 19.3

खौई 15.8

गड्ढा 15.1

तालाब 18.10

परिखा 604.20

पुलः नीचे मार्ग 1065.14

लोक 1063.16

### खौतक

खनन कर्मी 1018.7

खौई 15.8

परिखा 604.20

सैनिक खात 604.21  
 खात व्यवहार  
 क्षेत्र मापन 959 33  
**खाता**  
 पटवारी बही 553 12  
 लेखा 632 1  
 लेखा शीर्षक 632 4  
 लैजर 632 21  
**खाता परीक्षक**  
 लेखा परीक्षक 632 34  
**खाता परीक्षा**  
 लेखा परीक्षा 632 33  
**खाता पीता [खाती पीती]**  
 मध्यवित्त 625 8  
**खाता बही**  
 लेखा पुस्तक 632 8  
 लैजर 632 21  
**खाति**  
 खनन 1018 1  
**खातिका**  
 लीक 1063 16  
**खातिर**  
 कारणत 507 7  
 सत्कार 184 1  
 सम्मान 854 3  
**खातिर तवाजो**  
 सत्कार 184 1  
**खातिरदारी**  
 सत्कार 184 1  
**खाती**  
 काष्ठ कर्मी 597 24  
 गडदा 15 1  
 छोटो तालाब 18.11  
**खातून**  
 कुलीन स्त्री 728 7  
**खाते**  
 लेखे मे 632 40  
**खाते पीते**  
 उठते बैठते 1049 18  
**खाते में**  
 लेखे में 632 40  
**खान्ना**  
 अत 995.1  
 नारा 531.1  
 समाप्ति 942.6  
**खाव**  
 खाद 552.10 ⇨  
 विष्ठा 216.2  
**खावक**  
 भक्षक 181.53  
**खावन**  
 भक्षण 181.10  
**खाव भिट्टी**  
 जिप्सम 100.16  
**खावर**  
 खावर 552.5 ⇨  
 निम्न तट सूची 25.24

**खाद लगाई**  
 भूमि उर्वरण 552 9  
**खाद लगाना**  
 भूमि उर्वर कर्मा 552.15  
**खादित**  
 भक्षित 181 62  
**खादिता**  
 भक्षक 181 53  
**खादिम**  
 परिचारक 651 28  
 सेवक 651 25  
**खादिमा**  
 सेविका 651 26  
**खादी**  
 खादी 580 9 ⇨  
 खुरदुरा वस्त्र 579 4  
 मैट (प्रिट) 405 8  
**खादी केन्द्र**  
 खादी केन्द्र 576 23 ⇨  
**खादी भंडार**  
 खादी केन्द्र 576 23  
**खाद्य**  
 आहार पदार्थ 186 1  
 आहार्य 197 22  
 शौच (आहार) 198 13  
**खाद्य अंडा**  
 खाद्य अंडा 206 2 ⇨  
**खाद्य आहार**  
 खाद्य आहार 197 1 ⇨  
**खाद्य गिरी**  
 गिरी 191 14  
**खाद्यता**  
 आहार शौच 198 6  
 आहार्यता 197 12  
**खाद्य तेल**  
 खाद्य तेल 196.11 ⇨  
**खाद्य पक्षी पालन**  
 मुरगी पालन 555 3  
**खाद्य पदार्थ**  
 आहार पदार्थ 186 1  
**खाद्य फल**  
 खाद्य फल 190 1 ⇨  
**खाद्य फल सूची**  
 खाद्य फल सूची 190.2 ⇨  
**खाद्य बीजली**  
 गुठली बीजली 112 4  
**खाद्य मसाला**  
 आहार मसाला 281 3  
**खाद्य मांस**  
 खाद्य मांस 206.11 ⇨  
**खाद्यान्न**  
 अनाज 187 1  
**खाद्योज**  
 विटामिन 179 16  
**खान**  
 कुलीन पुरुष 728.6  
**खान**  
 खान 92.14 ⇨

**खान**  
 दल नायक 852 6  
**खान**  
 भंडार 670.3  
 भोजन कर्म 181.4  
**खान**  
 सत्ताधारी 899 3  
 सामत 882 32  
 सेनापति 935 1  
**खानक्राह**  
 इसलामी मठ 745 9  
**खानखानों**  
 महा सामत 882 33  
 महा सेनापति 935 2  
 सर्वोच्च सत्ताधारी 899 5  
**खानगाह**  
 इसलामी मठ 745 9  
**खानगी**  
 पारिवारिक 726 13  
 देश्या 807 5  
 तैयकिक 689 3  
**खानज़ादा**  
 राजकुमार 882 20  
**खानदान**  
 कुल 726 8  
 वंश 727 1  
**खानदान वाले**  
 स्वजन 725 1  
**खानदान: राजरा**  
 वंशावली 727 13  
**खानदानियत**  
 अनुवशिकता 727 17  
**खानदानी**  
 आनुवंशिक 727 39  
 उच्च कुलीन 728.15  
 दायागत 623 27  
 स्वाभाविक 836 11  
**खानदानी अदावत**  
 आनुवंशिक शत्रुता 706 4  
**खानदानी दुश्मन**  
 आनुवंशिक शत्रु 706 5  
**खानदानीपन**  
 उच्च कुलीनता 728 3  
**खान पान**  
 खान पान 181 1 ⇨  
**खानम**  
 कुलीन स्त्री 728.7  
**खान मज़दूर**  
 खंडिक 92.18  
**खानसामी**  
 परोस कर्मी सूची 183.21  
 रसोई अध्यक्ष 195 9  
 रसोईदार 195 7  
**खान साहब**  
 पुरुष उपाधि सूची 856 2  
**खाना**  
 आधान स्थान 671.17  
 आला 671 18

**खाना**  
 आहार पदार्थ 186 1  
**खाना**  
 कमरा 614 1  
 खाना 671.20 ⇨  
 गृह 601 1  
 गोटी घर 479 2  
 डिब्बा 676 1  
**खाना**  
 दत्त प्रहार करना 918 24  
 भक्षण करना 181 33  
**खाना**  
 भवन 602 7  
 भुजाकृति 969 2  
**खाना**  
 भोजन करना 181.32  
**खाना**  
 लेखा पुस्तक खाना 632 9  
**खाना**  
 व्यय करना 644 13  
**खाना**  
 सग्रहालय 669 8  
**खाना**  
 सहभोज 183 4  
**खाना**  
 स्टोरेज बिन 671 24  
**खानाआबाद**  
 गृहस्थीयुक्त 235 12  
**खानाए खुदा**  
 उपासनालय 745 15  
 मसजिद 745 17  
**खाना करना**  
 भोज देना 183 33  
**खानाखराब**  
 आवारागर्द 1090 43  
**खानाजर्गी**  
 गृहयुद्ध 905 16  
**खाना तलारी**  
 खाना तलारी 336 14 ⇨  
**खाना दामाद**  
 घर जमाई 724 23  
**खानादार**  
 गृहस्थीयुक्त 235 12  
**खानादापी**  
 गृहस्थी पालन 235.6  
**खाना न खाना**  
 उपवास रखना 748 17  
**खाना नसीब न होना**  
 आहार अभाव होना 627 11  
**खाना पिलाना**  
 सगत करना 696 19  
**खाना पीना**  
 खान पान 181 1  
 खाना पीना 181.31 ⇨  
 सगत करना 696 19  
 संगति 696.1  
 साथ खाना पीना 183.32

## खाना पीना करना

- खाना पीना करना**  
 भोज देना 183 33  
**खानापूरी**  
 प्रसिद्धि 412 27  
**खानाबंद**  
 कोटिकृत 936 13  
**खानाबंदी**  
 कोटिकरण 936 5  
*खानाबंदी 902 17 ⇨*  
**खानाबदोश**  
*खानाबदोश 1090 44 ⇨*  
**खानाबदोशी**  
*खानाबदोशी 1090 5 ⇨*  
**खाना बनाई**  
 रसोई कर्म 195 6  
**खाना बनाना**  
 रसोई करना 195 43  
**खाना शीर्षक**  
 लेखा पुस्तक खाना शीर्षक 632 10  
**खानि**  
 खान 92 14  
**खानिक**  
 सेध 864 16  
**खानिल**  
 सेधमार 864 17  
**खाने का नाम करना**  
 कम खाना 182 12  
**खाने का मुँह**  
 मुख विवर 143 1  
**खाने की छुट्टी**  
 भोजन अवकाश 494 5  
**खाने की मेज़**  
 डाइनिंग टेबल 595 35  
**खाने के दौंत**  
 आंतरिक रूप 967 7  
**खाने के लाले**  
 आहार अभाव 627 3  
**खाने पीने का यार**  
 सस्वार्थ मित्र 705 8  
**खाने पीने वाला**  
 मद्यमांस सेवी 205 12  
**खाने वाला**  
 मक्षक 181 53  
**खानों वाली अलमारी**  
*खानों वाली अलमारी 671.4 ⇨*  
**खा पी डालना**  
 अपव्यय करना 644 15  
**खानखवाली**  
 असंगत विचार 330 3  
**खानी**  
 दुर्गुण 314 4  
 भूल 498 3  
**खानोश**  
 ध्वनिहीन 295 4  
 निरुत्तर 335.10  
 मीन 429.22  
**खानोशी**  
 ध्वनिहीनता 295.1
- मीन भाय 429 3  
**खामोशी से**  
 मीनत 429 29  
**खाया**  
 अडकोश 152 11  
**खाया [खाई]**  
 प्राप्तभोजन 181 51  
 भक्षित 181 62  
**खाया पिया लगना**  
 पुष्ट होना 179 20  
**खार**  
 ईर्ष्या 709 1  
 ऊसर 552 3  
**खार**  
 कटक 115 4  
**खार**  
 क्षार 87 10  
**खार**  
 प्रेम प्रतिद्वंद्वी 368 4  
**खार**  
 राख 106 15  
**खार खाना**  
 ईर्ष्या होना 709 3  
**खार निकालना**  
 प्रतिशोध लेना 873 8  
**खारा**  
 बड़ा टोकरा 677 3  
**खारा [खारी]**  
 नमकीन 279 10  
**खारापन**  
 नमकीनपन 279 1  
**खारिज़**  
*खारिज़ 877 13 ⇨*  
 निर्वासित 870 25  
 बातिल 338 44  
**खारिज़ करना**  
 बातिल करना 338 27  
**खारिज़ी**  
*खारिज़ी 877.12 ⇨*  
 बातिलकरण 338 12  
**खारिश**  
*खारिश 165.2 ⇨*  
**खारिश**  
 खारिश 165 2  
 विवाई 165 6  
**खारीपन**  
 नमकीनपन 279.1  
**खारी पानी**  
 सोडा वाटर 208 11  
**खारी मिट्टी**  
 नोनिया मिट्टी 100 18  
**खारी सोडा**  
 सोडा वाटर 208.11  
**खाल**  
 अपरिष्कृत घर्म 582.27  
 कछार 25 26  
**खाड़ी** 24.5  
 गहरा गड्ढा 15 2
- त्वचा 134 1  
 मशक 679 38  
**खाल उधकाई**  
 विचर्मीकरण 582 4  
**खाल उधकाई**  
 घर्म कर्मी 582 3  
**खाल उधेड़ना**  
 विचर्मीकरण करना 582 29  
**खाल खींचना**  
 विचर्मीकरण करना 582 29  
**खालसा**  
 राष्ट्रीयकृत 635 19  
 सामूहिक 690 13  
 सिख धर्मावलंबी 737 20  
**खालसा दीवान**  
*खालसा दीवान 745 29 ⇨*  
**खाला**  
 मौसी 722 46  
**खाला: घर**  
 ननिहाल 601 6  
**खालाज़ाद**  
 मौसिया 722 51  
**खाला जी का घर**  
 सहज कार्य 518 2  
**खाला जी का घर होना**  
 बाएँ हाथ से कर सकना 487 18  
**खालिक** †  
 अल्लाह 764 12  
 रचेता 527 14  
**खालिक्र**  
 सृष्टि रचेता 529.5  
**खालित्य**  
 गजापन 137 16  
**खालिक्रा**  
 तबू खभा 600 24  
**खालिस**  
 अमिश्रित 1008 30  
**खालिस**  
 खरा [खरी] 98 12  
 विशुद्ध 219 7  
**खालिसा**  
 सिख धर्मावलंबी 737 20  
**खाली**  
 अजनाकीर्ण 617 15  
**खाली**  
 अनलंकृत 227 5  
 अनावासित 617.13  
**खाली**  
 अवकाशपूर्ण 494 23  
 अविचारक 330 23  
 अव्यस्त 503 12  
 असफल 513 4  
 आजीविकाहीन 649.11  
 निर्जन 617.16  
 पल्लवहीन 115.14  
 मात्र 946 19  
 रिक्त 1005 7  
 रिक्त 1005 7
- रिक्त (पद) 653 30  
 लक्ष्य च्युत 931 23  
 विरल 1005 9  
 शून्य स्थान 33 4  
 सारहीन 84 20  
**खाली करना**  
 रिक्त करना 1005 6  
 रथान त्यागना 1036 10  
**खाली जाना**  
 लक्ष्य च्युत होना 931 19  
**खाली ताल**  
 अनाघात ताल 458 29  
**खाली दिमाग**  
 विचारहीनता 330 7  
**खालीपन**  
 अनावासितता 617 3  
 अव्यस्तता 503 4  
 निर्जनता 617 6  
 निर्वातता 1005 3  
 रिक्तता 1005 1  
 विचारहीनता 330 7  
 विरलता 1005 2  
 शून्य स्थान 33 4  
**खाली पेट**  
 अनखाए 181 70  
 अप्राप्तभोजन 181 52  
 क्षुधित 180 23  
**खाली भरा**  
 विपरीतता उपमान सूची 310 13  
**खाली यार**  
 असफल लक्ष्य 931 5  
**खाली हाथ**  
 अभावग्रस्त 627 17  
 शस्त्रहीन 930 7  
**खाली हाथ रहना**  
 प्रतिफल न मिलना 510 9  
**खाली हाथ लौटना**  
 असफल लौटना 513 3  
**खाली होना**  
 आजीविकाहीन होना 649 6  
 अवासित न होना 617 9  
 व्यस्त न होना 503 8  
**खालू**  
 मामा 722 40  
 मौसा 722 45  
**खाव**  
 पोत. मालकक्ष 1072 37  
**खावी**  
 खेत सीमा 551 21  
**खाविंद**  
 पति 803 5  
**खास**  
 असामान्य 312 14  
 उत्तम 313.13  
 गण्य 852 9  
 घनिष्ठ 704 27  
 विशिष्ट 312 15  
 वैयक्तिक 689 3



व्यक्तित्वयुक्त 836 7  
**खासकर**  
 विशिष्टत 312 20  
**खास तौर पर**  
 विशिष्टत 312 20  
**खास तौर से**  
 विशिष्टत 312 20  
**खासदान**  
 पानदान 213 28  
**खास महल**  
 ज्ञानखाना 614 20  
 राजा प्रधान पत्नी 882 18  
**खास मौकों पर**  
 अरामान्यत 312 20  
**खास लोग**  
 विशिष्ट जन 728 13  
**खासा**  
 धनिक आहार 197 9  
 मध्यम स्तरीय 313 18  
**खासा [खासी]**  
 उत्तम 313 11  
**खासियत**  
 विशिष्टता 312 2  
 वैयक्तिकता 689 2  
 व्यक्तित्व 836 1  
**खासी जैतिया पहाड़ियों**  
 भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1  
**खिकिर**  
 लोमड़ी 127 79  
**खिच आना**  
 आकर्षित होना 1050 23  
**खिचन**  
 आकर्षण 1050 10  
**खिचन**  
 खिचन 392 9 ⇨  
**खिचन**  
 खिचन 392 9  
**खिचनशील**  
 लबनीय 545 35  
**खिचनशीलता**  
 लबनीयता 545 20  
**खिचना**  
 आकर्षित होना 1050.23  
 खिन्न होना 380 8  
 दूर होना 32 4  
 विलंब होना 495 6  
**खिचवा**  
 कर्षण कर्ता 1051 37  
 नौका कर्षक 1080 4  
**खिचा [खिची]**  
 अप्रसन्न 381 10  
 आकर्षित 1050.28  
 कसा [कसी] 1013.25  
 तना [तनी] 1013.26  
 निष्कर्षित 83 14  
 विलंबित 495.11  
**खिचाई**  
 उद्देघन 1017.2

कर्षण 1051 7  
 तनाई 1013 5  
 निष्कर्षण 83 1  
 भार वहन 104 1 2  
**खिचाई करना**  
 लज्जित करना 845 8  
**खिचाव**  
 आकर्षण 1050 10  
 तान 458 15  
 मोघ 392 12  
**खिचावट**  
 खिचन 392 9  
**खिचावदार**  
 चीड़ा [चीड़ी] 197 36  
**खिचाहट**  
 वैमनस्य 706 10  
**खिचिया**  
 कर्षण कर्ता 1051 37  
 नौका कर्षक 1080 4  
**खिची गति**  
 विलंबित गति 458.9  
**खिचैया**  
 कर्षण कर्ता 1051 37  
 नौका कर्षक 1080 4  
**खिचडन**  
 खिचन 1032 5 ⇨  
**खिचना**  
 उँडलना 1032 18  
 खिचन 1032 19 ⇨  
**खिचा [खिची]**  
 खिडा [खिडी] 1032 31 ⇨  
**खिचाऊ**  
 अपव्ययी 644 24  
**खिचाना**  
 अपव्यय करना 644 15  
**खिचाना**  
 बिखेरना 668 14  
**खिचाव**  
 खिचन 1032 5  
**खिचाव**  
 बिखराव 668 1  
**खिखिद**  
 बीहड़ भूमि 987 5  
**खिचंत**  
 गति प्रतिरोध 1047 5  
**खिचखिच**  
 कर्कश सौदेबाज़ी 658 7  
 तकरार 708 7  
**खिचडन**  
 घिसट 1051.9  
**खिचडन**  
 लँगड़ी चाल 1084 19  
**खिचडना**  
 घिसटना 1051.27  
**खिचका**  
 दलिया 202 8  
**खिचका [खिचकी]**  
 घिसटा [घिसटी] 1051 38

**खिचकी**  
 उपवास आरंभ भोजन 748.14  
 खिचड़ी 202.1 ⇨  
 तिल तडुल मिश्रण 1008.2  
 विविध सामग्री: उपमान सूची 669 5  
**खिचौ**  
 पतझड़ काल 52 2  
 पल्लव पतन 117 8  
 वृद्धता 232 2  
**खिच**  
 पैगंबर सूची 791 2  
**खिचाना**  
 छेड़छाड़ करना 385 12  
**खिचखिच**  
 टुकटुकहाट 297 26  
**खिचकी**  
 खिचकी 608 17 ⇨  
 गुप्त मार्ग 1065 2  
 पार्श्व द्वार 608 5  
**खिचताब**  
 उपाधि 856 1  
 संबोधन 430 10  
**खिचता**  
 आवासीय भूखंड 598 3  
**खिचमत**  
 परिचर्या 651 6  
 सेवा 651 1  
**खिचमतगार**  
 परिचारक 651 28  
**खिचमतगारनी**  
 परिचारिका 651 29  
**खिच-मतगारी**  
 परिचर्या 651 6  
**खिचमतगुजार**  
 परिचारक 651 28  
**खिचमती**  
 परिचारक 651 28  
**खिन खिन**  
 प्रति क्षण 1049 19  
**खिच**  
 उदास 380 14  
 खिन्न 380 10 ⇨  
 धिताग्रस्त 377.10  
 दुःखी 391.24  
**खिचता**  
 खिन्नता 380.2 ⇨  
**खिचहृदय**  
 भग्नहृदय 391 33  
**खिच होना**  
 खिन्न होना 380.8 ⇨  
**खिचमन**  
 क्रसल 547 1  
**खिचराज**  
 लगान 647 25  
**खिचराजगुजार**  
 करदाता 647.3  
**खिचराज**  
 इतराहट 860 5

मद गति 1045 2  
**खिचरानी खिचरानी**  
 शिथिल गति से 1045.17  
**खिलंदका**  
 क्रीड़ाप्रिय पुरुष 469.6  
**खिलंदका [खिलंदकी]**  
 क्रीड़ाप्रिय 469 16  
 चंचल 860 24  
 विनोदी 385 13  
**खिलंदकापन**  
 क्रीड़ाप्रियता 469.5  
 चंचलता 860.8  
**खिलंदकी**  
 क्रीड़ाप्रिय स्त्री 469 7  
**खिल**  
 शून्य स्थान 33 4  
 शेषाश 954 10  
**खिलअत**  
 उपहार परिधान सूची 583 23  
 परिधान 583 1  
**खिलखिल**  
 खिलखिल 384.4 ⇨  
 हासशील 384 13  
**खिलखिल करना**  
 खिलखिल करना 384.10 ⇨  
**खिलखिलता [खिलखिलती]**  
 हासशील 384 13  
**खिलखिलाना**  
 किलकारना 384 9  
 खिलखिल करना 384 10  
 हँसना 384 7  
**खिलखिलाहट**  
 खिलखिल 384.4  
 हास 384 1  
**खिलन**  
 प्रस्फुटन 119.1  
 रंग प्रस्फुटन 291.3  
 विकास 534 4  
 विशदन 822 3  
**खिलना**  
 प्रसन्न होना 381 4  
 प्रस्फुटित होना 119 6  
 मुस्कराना 384 11  
 युवा होना 231 11  
 रंग प्रस्फुटित होना 291.9  
 विकसित होना 534 9  
**खिलवत**  
 अंतरंग कक्ष 614.18  
 एकांतता 697.3  
**खिलवाड़**  
 क्रीड़ा 469 4  
 नटखटपन 860 10  
**खिला [खिली]**  
 अन्धान 119.14  
 पुष्पित 118 14  
 प्रस्फुटित 119.10  
 युवा 231 12  
 वसंत कालीन 52.3

## खिलाई

- विकसित 534 14  
विशद 822 21
- खिलाई**  
*खिलाई* 183 22 ⇨
- खिलाई पिलाई**  
पालन पोषण 720 1
- खिलाकी**  
अति अनुभवी 303 18  
करतबी 506 10  
कूटनीतिज्ञ 819 16  
*खिलाड़ी* 475 2 ⇨  
खेल प्रदर्शक 473 29  
दोंबबाज़ 819 19  
नटखट 860 27  
प्रवीण 303 22  
बाजीगर 473 18  
शोबदेबाज़ 474 41
- खिलाकी [खिलाक़न]**  
क्रीडाप्रिय 469 16
- खिलाना**  
*खिलाना* 183 36 ⇨  
प्रसन्न करना 381 5  
भोज देना 183 33
- खिलाना पिलाना**  
पालन पोषण करना 720.17
- खिलाने वाला**  
*खिलाने वाला* 183 41 ⇨
- खिलानपन**  
प्रस्फुटितता 119 2  
विशदता 822 2
- खिलाक़**  
विरुद्धत 886 8  
विरोधी 886 7
- खिलाक़ क़ानून**  
अवैधता 878 15
- खिलाक़त**  
विरोध 886 4
- खिलाक़ी**  
विरोध 886 4
- खिला रंग**  
प्रस्फुटित रंग 289.27
- खिली जवानी**  
यीवन 231 6
- खिलौना**  
*खिलौना* 480.1 ⇨
- खिलौना गाड़ी**  
*खिलौना गाड़ी* 480 4 ⇨  
मिट्टी की गाड़ी 480 5
- खिल्ला**  
धातु खोट 98 5
- खिल्ली**  
उपहास 844 1  
कील 1016 8  
खिलखिल 384 4
- खिल्ली उफ़ाना**  
उपहास करना 844 6
- खिल्लीबाज़**  
उपहास कर्ता 844 12

## खिवाई

- नौकायन 1080 1
- खिवैया**  
चपू धारी 1080 20  
नाविक 1080 21  
सकट मोचक 910 10

## खिरत

- ईंट 599 31
- खिसक जाना**  
चुपचाप पलायन करना 916.11

- खिसकता [खिसकती]**  
सरकने वाला 1084 51

- खिसकन**  
चुपचाप पलायन 916 2  
धँसना 1031 8  
फिसलन 1084 15  
सरकन 1084 22

- खिसकना**  
चुपचाप पलायन करना 916 11  
धँसना 1031 19  
फिसलना 1084 37  
सरकना 1084.43

- खिसक लेना**  
चुपचाप पलायन करना 916 11

- खिसका [खिसकी]**  
चुपचाप पलायित 916 20  
सरका [सरकी] 1084 50

- खिसकाना**  
चोरी करना 864 44  
विस्थापित करना 1036 12

- खिसकाव**  
चुपचाप पलायन 916 2

- खिसखिस**  
खिसखिसाहट 297 9

- खिसखिसाहट**  
*खिसखिसाहट* 297 9 ⇨

- खिसलना**  
फिसलना 1084 37

- खिसलाहट**  
फिसलाहट 1084 14

- खिसियाना**  
लज्जित होना 845 6

- खिसियाया [खिसियाई]**  
खीजा [खीजी] 373.31  
लज्जित 845 10

- खिसियाहट**  
खीज 373.4

- खीच**  
कर्षण 1051 7  
कश 213 15  
तान 458.15

- खीच कर उछाकना**  
लुंथित करना 1017 6

- खीचतान**  
*खीचतान* 708.4 ⇨  
दुरारूढ़ कल्पना 308 4  
रस्साकशी 477 13

## खीच धकेल

- आरा गति 1035 2  
पिस्टन गति 1035 8

- खीचनहार**  
कर्षण कर्ता 1051 37

- खीचना**  
अवशोषित करना 1002 20

- आकर्षित करना 1050 24  
उच्छेदन करना 1017 5

- उपहास करना 844.6  
कर्षित करना 1051 22

- कसना 1013 18  
धित्राकन करना 404.35

- चूसना 181 46  
छीनना 635 13

- तानना 1013 19  
निष्कर्षित करना 83 11

- नीचे खीचना 1062 29  
मद्य आसवन करना 82 6

- लज्जित करना 845 8  
रहित करना 83 12

- खीचने वाला**  
कर्षण कर्ता 1051 37

- खीचा [खीची]**  
कर्षित 1051 36

- खीचाखीची**  
खीचतान 708 4

- खीचातानी**  
खीचतान 708.4

- खीचू**  
कर्षण कर्ता 1051 37

- खीज**  
*खीज* 373 4 ⇨

- खीजना**  
*खीजना* 373 18 ⇨

- खीजा [खीजी]**  
*खीजा [खीजी]* 373.31 ⇨

- खीझ**  
खीज 373.4

- खीझना**  
खीजना 373 18

- खीर**  
*खीर* 203 4 ⇨

- खीर घटाई**  
अन्नप्राशन संस्कार 798.10

- खीरी**  
ग्राम 620 1

- खील**  
*खील* 200.8 ⇨  
चक्की धुरी 560 14

- चाक कील 559 16

- खील**  
खील 200.8  
बड़ी कील 1016 10

- खीस**  
खीज 373 4

- प्रसव सात रात तक दूध 193.3

## खीसा

- खीसा* 672.5 ⇨  
जेब 672 1

- बटुआ 672 9

- खीसा मारना**  
जेब काटना 864 45

- खुंटी**  
कटा डठल *खुंटी* 114 2

- खुंदक**  
*खीज* 373 4

- खुंदक खाना**  
खीजना 373 18

- खुंबी**  
साग सब्जी सूची 189.4

- खुंभी**  
कुंकुरमुत्ता 189 13  
लौंग 228 24

- खुंस**  
ईर्ष्या 709 1  
क्रोध 373 1

- खुंसना**  
अटकना 1024 9

- खुआई**  
विलम्बि 863 1

- खुक्ख**  
रिक्त 1005 7

- खुखड़ी**  
*खुखड़ी* 575.4 ⇨  
*खुखड़ी* 675 13 ⇨

- खुखड़ी**  
भुट्टा 116 4

- खुजलाहट**  
धिरमिराहट 104 2

- खुजली**  
*खुजली* 165.3 ⇨  
गुदगुदी 385 4

- खुट**  
बुरा उपसर्ग सूची 314.11

- खुटक**  
चोंच प्रहार 918 14

- खुटकना**  
लुंथित करना 1017 6

- खुटक बबड़या**  
कठफोर 126 15

- खुटखुट**  
खटखटाहट 297 6

- चोंच प्रहार 918.14  
तुकतुकाहट 297 26

- खुटखुटाहट**  
खटखटाहट 297 6

- खुट्टल**  
कुंठित 270.24

- खुट्टलपन**  
कुंठितता 270.10

- खुट्टी**  
कुट्टी 556.5

- खुट्टी**  
ट्टा दौत 144.4

**खुदबी**  
खुड़डी 216.21 ⇨  
**खुतवा**  
उपदेश 430 9  
नमाज़ उपदेश 751 12  
भाषण 430.8  
भूमिका 447 8  
**खुत्थ**  
कटा डंठल. खूँटी 114 2  
**खुत्थी**  
नीली 672 8  
**खुद**  
मै 316 20  
स्वतःकृतता 505 36  
**खुदइच्छियारी**  
स्वाधीनता 900 1  
**खुदकारत**  
खुदकारत कृषक 553 20  
खुदकारत कृषि 553 19  
**खुदकारत कृषक**  
खुदकारत कृषक 553 20 ⇨  
**खुदकारत कृषि**  
खुदकारत कृषि 553 19 ⇨  
**खुदकुशी**  
आत्महत्या 249.13  
**खुदनुमाई**  
अग प्रदर्शन 590 7  
दर्प 858 5  
**खुदपरस्त**  
स्वार्थी 712 16  
**खुदपसंद**  
दर्पी 858 13  
**खुद बखुद**  
स्वतःकृतत. 505.36  
**खुदबीनी**  
दर्प 858.5  
प्रेष्ठ ग्रंथि 352 7  
**खुदमुज्जगर**  
स्वाधीन 900 7  
स्वावलंबी 648.11  
**खुदमुज्जारी**  
स्वाधीनता 900.1  
**खुदमुज्जारी**  
स्वालेंबतितता 648.2  
**खुदरा**  
खुदा सामान 666.7  
रेजगारी 829.23  
**खुदरा दुकानदार**  
खुदरा व्यापारी 657.5  
**खुदरा ऋरोहा**  
खुदरा व्यापारी 657 5  
**खुदराय**  
हेकडीबाज़ 734.23  
**खुदरा व्यापारी**  
खुदरा व्यापारी 657.5 ⇨  
**खुदबी**  
अकृषित (अनाज) 187.22  
स्वयं उत्पन्न 546.10

**खुदा**  
अल्लाह 764.12  
स्वयं उत्पन्न 546.10  
**खुदा [खुदी]**  
उत्कीर्ण 406 41  
उत्खनित 1018 16  
खनित 1018 15  
गुड़ा [गुड़ी] 548 59  
**खुदाई**  
अल्लाही 764 38  
ईश्वर कृत 764.36  
ईश्वर प्रदत्त 764 37  
ईश्वरीय 764 35  
ईश्वरीय लीला 764 2  
**खुदाई**  
उत्कीर्णन 406 19  
उत्खनन 1018 2  
खनन 1018 1  
खनि कर्म 92 17  
**खुदाई**  
धर्मशील 735 13  
बहमाड 1 1  
मानव अरचित 528 9  
**खुदाई करना**  
खोदना 1018 11  
**खुदाई यकील**  
ईसा 791 8  
**खुदा करे**  
काश 375 12  
**खुदा का ऋहर**  
ईश्वरीय संकट 909 4  
**खुदा का घर**  
देव मंदिर 745 30  
मसजिद 745 17  
**खुदा का बंदा**  
ईश्वर पूजक 751 5  
धर्मानुपालक मुसलमान 736.4  
**खुदा का बेटा**  
ईसा 791 8  
**खुदा की क्रुदरत**  
ईश्वरीय लीला 764 2  
**खुदा की मार**  
ईश्वरीय संकट 909 4  
**खुदादाद**  
ईश्वर प्रदत्त 764.37  
**खुदापरस्त**  
ईश्वर पूजक 751 5  
धर्मशील 735 13  
**खुदापरस्ती**  
ईश्वर पूजा 751.4  
**खुदाय**  
अल्लाह 764 12  
**खुदाबंद**  
अल्लाह 764.12  
**खुदाबंदगार**  
अल्लाह 764.12  
**खुदाबंदी**  
दयालुता 834.4

**खुदी**  
अह तत्त्व 351.3  
**खुदी को भूलना**  
प्रेमासक्त होना 368 15  
**खुदेया [खुदेयन]**  
खनन कर्मी 1018 7  
**खुद्वार**  
स्वामिमानी 858 11  
**खुद्वारी**  
स्वामिमान 858 3  
**खुनकदार**  
शीतल 105 19  
**खुनकी**  
शीत काल 53 1  
शीतलता 105 1  
**खुनसना**  
क्रुद्ध होना 373 15  
**खुनसी**  
कोधी 373 29  
**खुन्नस**  
ईर्ष्या 709 1  
**खुफ्रिया**  
गुप्त 824 20  
**खुफ्रिया खाना**  
चोर खाना 671 21  
**खुफ्रिया ताला**  
चोर ताला 609 25  
**खुफ्रिया दरवाज़ा**  
गुप्त द्वार 608 2  
**खुफ्रिया पुलिस**  
गुप्तघर्या विभाग 866 14  
**खुफ्रिया रास्ता**  
गुप्त मार्ग 1065 2  
**खुबन**  
खोच 270 4  
घुभन 270 1  
**खुबना**  
घुभना 270 1  
**खुबा [खुबी]**  
घुभा [घुभी] 270.17  
**खुबाना**  
खोचना 270.13  
**खुमरा**  
इसलामी साधु 790 23  
**खुमार**  
मद 211.1  
हंगओवर 211 4  
**खुनी**  
कुकुरमुत्ता 189.13  
**खुरंड**  
न्न खुरंड 167.14  
**खुर**  
अश्व खुर 150 12  
खुर 150.11 ⇨  
गंध धूप 274 17  
निम्नता. उपमान सूची 983.7  
**खुरकुल**  
कारंडव 126.19

**खुरच**  
कुरेद 406 26  
खुरच 270 3 ⇨  
**खुरचन**  
खुरच 270 3  
खुरचन 20.2 5 ⇨  
खुरचाई 542 7  
खुरचा पदार्थ 542 8  
**खुरचना**  
उत्कीर्ण करना 406 36  
कुरेदना 406 37  
खुरचना 542 15 ⇨  
**खुरचा [खुरची]**  
उत्कीर्ण 406 41  
**खुरचाई**  
खुरचाई 542 7 ⇨  
**खुरचा पदार्थ**  
खुरचा पदार्थ 542 8 ⇨  
**खुर चिह्न**  
खुर चिह्न 867 5 ⇨  
**खुरजी**  
स्वरिया 673 19  
बोरा 673 18  
**खुरत्राण**  
खुरत्राण 555.29 ⇨  
**खुरदरा [खुरदरी]**  
खुरदुरा [खुरदुरी] 269 19  
**खुरदुरा**  
मैट (प्रिट) 405 8  
**खुरदुरा [खुरदुरी]**  
असमतल 987 6  
खुरदुरा [खुरदुरी] 269.19 ⇨  
**खुरदुरापन**  
असमतलता 987 1  
खुरदुरापन 269 5 ⇨  
**खुरदुरा वस्त्र**  
खुरदुरा वस्त्र 579 4 ⇨  
**खुरन्यास**  
खुर चिह्न 867 5  
**खुर पदवी**  
खुर चिह्न 867 5  
**खुरपा**  
खुरपा 563 2  
**खुरपा**  
खुरपा 563.2 ⇨  
**खुरपा करना**  
गुड़ाई करना 548.44  
**खुरपा खुरपी कर्म**  
गुड़ाई निराई 548.29  
**खुरपा लग [खुरपा लगी]**  
गुड़ा [गुड़ी] 548.59  
**खुरपी**  
खुरपी 563.3 ⇨  
**खुरण**  
खजूर 190.14  
**खुरभा**  
घुहारा 191 8  
बालुशाही 203.28

## खुरली

### खुरली

शस्त्र अभ्यास स्थल 930 3

### खुरहर

पशुपथ 1063 48

### खुराई

रस्सी सूची 570 6

### खुराक

आहार मात्रा 182 1

### खुराकबंदी

राशानिग 186 10

### खुराकी

आहार भत्ता 643 37

### खुराकान्त

ऊधम 294 9

बकवास 428 7

### खुराकाली

ऊधमी 294 32

कलहप्रिय 708 13

नटखट 860 27

बकयासी 428 26

### खुरिया

कटोरी 683 6

खुर चिह्न 867 5

घुटना गोल अस्थि 133 19

### खुरी

खुर चिह्न 867.5

### खुर्द

अनुज [अनुजा] 723.25

खड 938 1

लघु 980 20

### खुर्दबीन

खुर्दबीन 283 5 ⇨

### खुर्दबीन

खुर्दबीन 283.5

### खुर्दबुर्द

गबन 865 7

### खुर्द बुर्द

नष्ट 531 7

### खुर्दबुर्द

बंधक द्रोह 633 23

### खुर्द में

खुर्द में 666.16 ⇨

### खुर्दा

खड 938 1

खुर्दा 666.14 ⇨

खुर्दा सामान 866 7

### खुर्दा

रेजगारी 629 23

### खुर्दा सामान

खुर्दा सामान 666.7 ⇨

### खुर्दी

मुनाकाखोरी 865 16

### खुर्दम

कुरकुरा [कुरकुरी] 197 29

### खुराट

अति अनुभवी 303 18

दौबबाज 819.19

### खुराटा

खुराटा 266 9

### खुल कर

अगुप्त 822 34

सकोचहीनतः 846 9

साहसपूर्वक 394 18

स्पष्ट 822 32

### खुल खेलना

लज्जा त्यागना 846 5

### खुलता रंग

प्रस्फुटित रंग 289 27

### खुलन

अपिधानन 675 2

उधड़न 574 4

उन्मुक्ति 1015 3

रंग प्रस्फुटन 291 3

विशदन 822 3

विस्फुरण 119 4

### खुलना

आरभ होना 994 10

उधड़ना 574 8

उन्मुक्त होना 1015 6

गत्वरित होना 1046 15

प्रकट होना 822 17

प्रस्फुटित होना 119 6

यान प्रस्थान करना 1082.26

रंग प्रस्फुटित होना 291.9

लज्जा त्यागना 846 5

स्पष्ट होना 822 13

### खुलवाई

आमोचन 1015.2

### खुला [खुली]

अगुप्त 822 28

अनावृत 822 29

अनिषिद्ध 880 13

अपरिसीमित 1001.36

अपिधानित 675 19

उदार 344 5

उद्घाटित (रहस्य) 822.25

उधड़ा [उधड़ी] 574.14

उन्मुक्त 1015 9

ग्रथि युक्त 574 12

पूर्व धारणाहीन 344 13

प्रस्फुटित 119 10

मेघहीन 55 15

विशद 822.21

विस्तीर्ण 981.10

विस्फारित 119 12

संकोचहीन 846.7

### खुलाई

अपिधानन 675 2

उन्मोचन 1015.1

ग्रथि मोचन 574.3

यान अवतारण 1080.8

विस्फारण 119.5

### खुला कंठ

खुला कंठ 459.36 ⇨

### खुला खर्च

अपव्यय 644 3

### खुला गला

खुला कंठ 459 36

### खुला चतुरा

खुला चतुरा 610 7 ⇨

### खुलापन

अगुप्तता 822 9

अनिषेध 880 2

अपरिसीमितता 1001 11

उदार दृष्टिकोण 344 1

उन्मुक्तता 1015 4

छद्महीनता 822 11

प्रस्फुटितता 119 2

बेपर्दगी 590 12

मतहीनता 344 2

रहस्यहीनता 822 4

रिक्तता 1005 1

विशाल हृदयता 817 5

विस्तीर्णता 981 1

स्पष्टता 822 1

### खुला पोताग्रय

खुला बदरगाह 1069 9

### खुला बदरगाह

खुला बदरगाह 1069 9 ⇨

### खुला मार्ग

सार्वजनिक मार्ग 1063.8

### खुला रंग

प्रस्फुटित रंग 289 27

### खुला रहना

बंद न होना 119 8

### खुलावट

विशदता 822 2

### खुला विश्वविद्यालय

शिक्षालय सूची 321 11

### खुला समुद्र

खुला समुद्र 24 2 ⇨

### खुला सौंस

उन्मुक्त श्वास 245 7

### खुलासा

परिभाषा 317 1

### खुलासा

व्याख्या 427 15

सारांश 449 12

### खुलासा करना

व्याख्या करना 427 22

### खुला स्वर

असवृत उच्चारण 411 7

### खुला हाथ

आहार संपन्नता 626 2

### खुला होना

निषेध न होना 880.8

बंद न होना 119 8

### खुली

बेपर्दा 590.19

### खुली अलमारी

खुली अलमारी 671.5 ⇨

### खुली खाकी

खुली खाकी 24.6 ⇨

### खुली छत

खुली छत 611 12 ⇨

### खुली डोली

पहाड़ी डोली 1071 22

### खुली सभा

जन सभा 694 2

### खुली हवा

सचल वायु 85 4

### खुले

अगुप्त 822.34

प्रकट 822 33

### खुले आम

अगुप्त 822 34

साहसपूर्वक 394 18

### खुले खजाने

अगुप्त 822 34

### खुले तौर पर

स्पष्ट 822 32

### खुले दिमाग वाला

उदार 344 5

पूर्व धारणाहीन 344 13

### खुले दिल वाला

उदार 344 5

### खुले दिल से देना

निस्सकोच देना 638.9

### खुले बंदी

अगुप्त 822 34

### खुले बाजार

अगुप्त 822 34

### खुले मैदान

अगुप्त 822 34

### खुले हाथ देना

निस्संकोच देना 638.9

### खुले हाथों खर्च करना

अपव्यय करना 644 15

### खुल्लम खुल्ला

अगुप्त 822.34

स्पष्टता 822.32

### खुरा-

अच्छा उपसर्ग सूची 313 19

### खुरा

आनंदित 382 17

तृप्त 361.16

प्रसन्न 381 7

मनाया [मनाई] 374 19

मनोरजित 469 12

सतोषशील 360.19

### खुराईतिज्ञानी

सुप्रबंध 655 7

### खुरा करना

तृप्त करना 361 12

प्रसन्न करना 381.5

### खुराकिस्मत

सौभाग्यशाली 280.33

### खुराकिस्मती

सौभाग्य 260.17

- सुरास्रत**  
सुलेख 412 10
- सुरास्रवरी**  
सुसमाधार 440 2
- सुरा सुरा**  
प्रसन्नतापूर्वक 381 11
- सुरासू**  
सुरवभादी 837 10
- सुरागवार**  
रोचक 400 12  
सुदर 157 7
- सुरादिल**  
प्रसन्नचित्त 837 16
- सुरा नवीस**  
सुलेखक 412 47
- सुरानसीब**  
सीभाग्यशाली 260 33
- सुरानसीबी**  
सीभाग्य 260 17
- सुरानुमा**  
सुदर 157 7  
सुडील 155 4
- सुरानुमाई**  
सुडीलता 155 2
- सुराबयान**  
वार्तालाप कुशल 435 25
- सुराबू**  
पान मसाला सूची 213 20  
सुगंध 273 4
- सुराबूदार**  
सुगंधपूर्ण 273 15
- सुरामिजाज**  
प्रसन्नचित्त 837 16
- सुरामिजाजी**  
प्रसन्नचित्तता 837 7
- सुरारंग**  
घटकीला [चटकीली] 289 33
- सुराहाल**  
आहार सपन्न 626 13  
समृद्ध 626 11
- सुराहाली**  
आहार संपन्नता 626 2  
समृद्धि 626 1
- सुरा होना**  
प्रसन्न होना 381 4
- सुरामद**  
उल्लाप 435 11  
गिड़गिड़ाहट 350 8  
घाटुकारिता 841 17  
मनुहार 374 6  
साम नीति 819 4
- सुरामद करना**  
घाटुकारिता करना 841.26
- सुरामद पसंद**  
घाटुकारिता प्रेमी 841 36
- सुरामद पसंदी**  
घाटुकारिता प्रेम 841 18
- सुरामदी**  
घाटुकार 841.35  
व्याज प्रसंसक 841.32
- सुरामदी टट्ट**  
घाटुकार 841 35
- सुरामदीद**  
स्वागत 1059 1
- सुरामदी नीति**  
तुष्टीकरण नीति 374 8
- सुराशियौ मनाना**  
उत्सव मनाना 56 7
- सुराी**  
अनुमति 337 5  
आनद 382 1  
पसदगी 400 3  
प्रसन्नता 381 1
- सुराी**  
मगलोत्सव 796 1
- सुराी का सीदा**  
स्वेच्छित्त कर्म 650 7
- सुराी सुराी**  
प्रसन्नतापूर्वक 381 11  
स्वेच्छापूर्वक 650 30
- सुराी से**  
स्वेच्छापूर्वक 650 30
- सुराी से फूलना**  
अति आनदित होना 382 12
- सुरक**  
अरसिक 838 15  
तृषा कातर 180 21  
रूखा [रूखी] 197 24  
वर्षाहीन 54 20  
शुष्क 89 9
- सुरकसाली**  
वर्षाहीनता 54 2
- सुरका**  
अरसिक 838 15
- सुरकी**  
अरसिकता 838 7  
आहार रूखापन 197 13  
जलहीनता 89.4  
तट 25 8  
थलीय धरातल 25 3  
वर्षाहीनता 54.2  
शुष्कता 89 1
- सुरसिया**  
अंडकोश 152 11
- सुरपुर पुरुर**  
कानाफूसी 435 4
- सुरपुर फुरुर**  
कानाफूसी 435 4
- सुरसुसियत**  
विशिष्टता 312 2
- सुरसुसियत**  
व्यक्तित्व 836 1
- सुरसुसी**  
उत्तम 313 13  
गण्य 852 9
- विशिष्ट** 312 15
- सुराी**  
कंबल- लबादा 585.20
- सुराी**  
आक्रामक 914.19
- सुराी**  
निर्दय 835 10
- सुराी**  
हिंसक 251 31
- सुराी जानवर**  
हिंस्र जीव 121 14
- सुराीरपन**  
आक्रामकता 914 4
- सुराीरियत**  
आक्रामकता 914 4
- सुराीर**  
भारक 251 24
- सुराी**  
अनाज बाल 113 8  
अवरोध 1047 8  
कटा डठल सुराी 114 2  
कर्ण मल 215 8  
कोना 607.6  
दिशा 29.1  
नीवें पत्थर 607 13  
प्राप्य अश 624 8
- सुराी**  
अवरुद्ध करना 1047 19  
कम होना 980 12  
छेड़छाड़ करना 385 12  
लुपित करना 1017.6  
~माप्त होना 942 12
- सुराी**  
सुराी 555 11 ⇨  
तंबू सुराी 600 25  
नौका बधन सुराी 1073 18  
मकरी 1073 36
- सुराी गाड़ना**  
आयत्तित्त करना 618 17
- सुराी**  
अक्षाय कील 1077 14  
अनाज बाल 113 8  
कटा डठल सुराी 114.2  
दीवार सुराी 1016 17  
प्रालंबन सुराी 1024 5  
वाघ सुराी 461.95
- सुराी**  
कटा डठल सुराी 114 2
- सुराी**  
रोदाई 541.4
- सुराी**  
रोदना 541.8
- सुराी**  
मारक 251 24
- सुराी**  
मारकाट 905.25
- सुराी**  
आदत 836.3
- सुराी**  
उल्लाहा लच्छा 573.8
- सुराी**  
आपत्ति करना 326 12
- सुराी**  
हल रेखा 551 20
- सुराी**  
हल रेखा 551.20
- सुराी**  
मानव घात 251 10  
मारण 251.1  
रुधिर 131 1  
वंशजता 727.25  
संतान समष्टि 718 2
- सुराी का प्यासा**  
प्राणांतक शत्रु 706 7
- सुराी का रिश्ता**  
जनन संबध 716 1
- सुराी लच्छा**  
मारकाट 905.25
- सुराीलराबा**  
मारकाट 905.25
- सुराी पसीना**  
अति परिश्रम 493 3
- सुराी पसीना एक करना**  
अति परिश्रम करना 493 7
- सुराी पसीने की कनाई**  
सन्नम आय 643 2
- सुराी पानी हो जाना**  
आतंकित होना 395 16
- सुराी**  
मारने वाला 251 26  
रुधिरयुक्त 131 17  
हिंसापूर्ण 251 30
- सुराी**  
अच्छा उपसर्ग सूची 313 19
- सुराी**  
अत्यधिक 944 7  
अधिक 944.5  
उत्तम 313 11  
मरपेट 182 17  
शाबारी उद्गार सूची 841.40
- सुराी पटना**  
घनिष्ठ होना 704.18
- सुराीसुरत**  
सुदर 157.7
- सुराीसुरती**  
सुंदरता 157 1
- सुराी सीपना समझना**  
विमर्श करना 330.16
- सुराीनी**  
सुराीनी 191.8
- सुराीनी**  
सुराीनी 191.6 ⇨
- सुराीनी**  
मेया सूची 191.2
- सुराी**  
उत्तमतमता 313.3

## खूराक

उत्तमता 313 1  
प्रवीणता 303 8  
महानता 839 1  
विशिष्टता 312.2

## खूराक

औषध मात्रा 176 6

## खूराक

नियत मात्रा 946 4

## खूलजान

पान मूल 112 16

## खूतट

अतीत जन 63 4  
अरसिक 838 15  
उल्लू 126.14

## खूटीय

ईसा विषयक 791 31

## खेखसा

ककोडा 189 8

## खेघर

ग्रह 7 2  
देवता 772 1  
पक्षी 126 1  
भूत 786 1  
मेघ 55.1  
राक्षस 784 1  
वायु 85 1  
विद्याधर 779.15  
विमान 1074 10  
शिव 767 1  
सूर्य 8.1

## खेघरात्र

खिचड़ी 202 1

## खेघरी

दुर्गा 776 7  
परी 782 4  
भूतनी 786.2  
मादा पक्षी 126 2  
विद्याधर स्त्री 779 16

## खेघरी गुटिका

आकाशघारी बटी 474 22

## खेत

आखेट 252 1  
ग्रह 7 2  
ग्राम 620 1  
घोड़ा 127 35  
लाठी 923 9  
शस्त्रधारी 930 6

## खेटक

छोटा ग्राम 620 4  
ढाल 921 1

## खेटकी

आखेटक 252.2  
धर्म पाखंडी 825 4

## खेटितान

प्रशंसा गायक सूची 841 12  
वेताल साधक 759 14

## खेटी

लफ़ेगा 811 8

## खेका

ग्राम 620 1  
छोटा ग्राम 620 4

## खेकापति

गाँव पुरोहित 744 13  
ग्राम मुखिया 892 6

## खेकी

ग्राम 620.1  
जरायु 152 15  
धातु मल 214 5

## खेका

दल 691.1  
मंठली 691.5

## खेत

खड़ी फ़सल 547.4  
खेत 551 1 ⇨  
जमींदारी 553 13  
नस्ल 243 3  
मुजाकृति 969 2  
युद्ध क्षेत्र 905 6  
शौच स्थान 216.17

## खेत कमाई

भूमि उर्वरण 552 9

## खेत कमाना

भूमि उर्वर करना 552 15

## खेत गुलाम

कृषि दास 553 24

## खेत गुलामी

कृषि दासता 553 23

## खेत छोड़ना

पलायन करना 916 10

## खेत जोतना

हल चलाना 548 34

## खेत: पत्तों आदि से डेँकाई

पलवार 550 7

## खेत भवन

खेत भवन 602 15 ⇨

## खेत मकान

खेत भवन 602 15

## खेत मघान

कृषि रक्षण मघान 550 4

## खेत मासिक

जमींदार 553 14

## खेत रखाई

कृषि रक्षण 550 1

## खेत रखाना

कृषि रक्षा करना 550.8

## खेत रहना

युद्ध में रहना 249 20

## खेत सिंचाई

सिंचन 548 13

## खेत: सीमा

खेत सीमा 551.21 ⇨

## खेती

कृषि 548.1  
भू संपत्ति सूची 624 12  
खेती करना  
कृषि करना 548.33

## खेतीबाड़ी

कृषि 548.1

## खेतीहर

कृषक 548 2

## खेद

खिन्नता 380.2  
खेद 380.1 ⇨  
दुःख 391 1  
पाप प्रायश्चित्त 813 4

## खेदजनक

दुःखद 391 25

## खेद प्रकट करना

खेद प्रकाशित करना 380 7

## खेद प्रकाशित करना

खेद प्रकाशित करना 380.7 ⇨

## खेद होना

खेद होना 380.6 ⇨

## खेदा

आखेट 252 1

हॉका 252 5

## खेदित

खिन्न 380 10

दुःखी 391 24

## खेदी

परचात्तापी 380.13

## खेना

नौकायन/करना 1080.31

## खेप

खेप 686 3 ⇨

## खेपना

विदा करना 1058.3

## खेमा

तबू 600 19

## खेमाबंद

ध्रुवीकृत 885.41

## खेमाबंदी

ध्रुवीकरण 885 12

## खेल

क्रीडा 469 4

खेल 475.1 ⇨

खेल प्रदर्शन 473 2

प्रदर्शन खेल 473 1

बाजी 475 9

मंच नाटक 463 1

मनोरंजक दृश्य 312 7

शो 468.5

सहज कार्य 518 2

## खेल कक्ष

क्रीडाकक्ष 482 3

## खेल करना

मंथित करना 468 32

## खेल का कमरा

क्रीडाकक्ष 482.3

## खेल का मैदान

खेल मैदान 482.10

## खेलकूद

क्रीडा 469.4

खेल 475.1

मनोरंजन 469.1

## खेल के दिन

बाल अवस्था 230.21

## खेल कोर्ट

खेल कोर्ट 482.7 ⇨

## खेल एतम पैसा हज़म

समापन उक्ति सूची 522.7

## खेल खेलना

कूटनीति प्रयोग करना 819.12

## खेल खेल में

क्रीडापूर्वक 469 17

## खेल खेल में

विनोदपूर्वक 385 15

## खेल खेल में

सहजता 518 24

## खेलघर

क्रीडागृह 482 2

## खेल टोली

खेल टोली 475 19 ⇨

## खेल तमाशा

मनोरंजन 469 1

विनोद 385 1

## खेल दर्शक

खेल दर्शक 473.30 ⇨

## खेल दर्शन

खेल दर्शन 473.3 ⇨

## खेलना.

क्रीडा करना 469.10

मंथित करना 468 32

मनोरंजन करना 469 9

## खेल निर्णायक

खेल निर्णायक 475 17 ⇨

## खेलनी

गोटी 479.1

बिसात 479 33

## खेल पटल

खेल पटल 479.36 ⇨

## खेल परिधान

खेल परिधान 583.15 ⇨

## खेल पाला

खेल पाला 482.9 ⇨

## खेल प्रतियोगिता

खेल प्रतियोगिता 475.15 ⇨

## खेल प्रदर्शक

खेल प्रदर्शक 473.29 ⇨

## खेल प्रदर्शन

खेल प्रदर्शन 473.2 ⇨

## खेल प्रशिक्षक

खेल प्रशिक्षक 475.18 ⇨

## खेल प्राप्तांक

खेल प्राप्तांक 475.22 ⇨

## खेल प्राप्तांक पटल

खेल प्राप्तांक पटल 475.23 ⇨

## खेल बनना

सफल होना 512.3

## खेल में

क्रीडापूर्वक 469.17

**खेल मैदान**  
**खेल मैदान** 482.10 ⇨  
**खेल स्थल**  
 क्रीडा स्थल 482.1  
**खेला**  
 क्रीडा 469.4  
 प्रदर्शन खेल 473.1  
 मंच नाटक 463.1  
 शो 468.5  
**खेला करना**  
 मंचित करना 468.32  
**खेला खाया [खेली खाई]**  
 अति अनुभवी 303.18  
**खेलाड़ी**  
 खिलाड़ी 475.2  
**खेवक**  
 घप्पू धारी 1080.20  
**खेवट**  
 गुहराज 770.26  
 घप्पू धारी 1080.20  
 नाविक 1080.21  
 पटवारी बही 553.12  
**खेवटाई**  
 नीकायन 1080.1  
**खेवटिया**  
 घप्पू धारी 1080.20  
**खेवन**  
 नीकायन 1080.1  
**खेवनहार**  
 घप्पू धारी 1080.20  
 नाविक 1080.21  
**खेवनहारा [खेवनहारी]**  
 नाविक 1080.21  
**खेवा**  
 खेप 686.3  
 गश्त 1083.16  
**खेवाई**  
 नीकायन 1080.1  
**खेवैया**  
 घप्पू धारी 1080.20  
 नाविक 1080.21  
**खेस**  
 मोटा सूत: धादर 593.23  
**खेसर**  
 खप्पर 127.32  
**खेसारी**  
 अनाज सूची 187.6  
**खेसारी** 188.10 ⇨  
 दलहन सूची 188.7  
**खेह**  
 धूलि 100.4  
**खेचू**  
 कर्षण कर्ता 1051.37  
**खेनी**  
**खेनी** 213.3 ⇨  
**खेर**  
 कल्याण 710.2  
 प्राण क्षमा 250.2

शरण 910.4  
 संकट मोचन 910.1  
 सुरक्षा 908.4  
**खेरक्याह**  
 कल्याण कामी 710.23  
**खेरक्याही**  
 कल्याण कामना 710.4  
**खेरबाद**  
 विदा कर्म 1058.2  
**खेरबाद कहना**  
 विदा करना 1058.3  
**खेरबादी**  
 विदा कर्म 1058.2  
**खेर चत्सला**  
 कुशल प्रश्न 710.7  
**खेरा [खेरी]**  
 कत्यई 289.36  
**खेरात**  
 दान 641.1  
 बलि वस्तु 754.2  
 शिक्षा वस्तु 642.6  
**खेरात खाना**  
 आहार वितरण केन्द्र 183.31  
**खेराती**  
 दानार्थ 641.22  
 लोकार्थ 832.13  
**खेरियत**  
 कुशल क्षेम 710.6  
 सुरक्षा 908.4  
**खेलर**  
 मथन. दंड 554.14  
**खों खों**  
 खोंसी 163.14  
**खोंच**  
 खरांच 270.2  
**खोंघ** 270.4 ⇨  
**खोंपना**  
**खोंपना** 270.13 ⇨  
 घोंपना 270.14  
**खोंपा**  
 कोचनी 565.22  
 लग्ना 563.6  
**खोंटना**  
 लुपित करना 1017.6  
**खोंडर**  
 तरु कोटर 803.2  
**खोंका [खोंकी]**  
 टूटे दौत वाला 144.18  
 लैगका लूला 153.20  
 विकलांग 153.15  
**खोंतल**  
 नीड़ 803.3  
**खोंता**  
 नीड़ 803.3  
**खोंप**  
 खोंच 270.4  
 घोंप 270.5

**खोंपना**  
 गङ्गाना 1016.38  
 घोपना 270.14  
**खोंपा**  
**खोंपा** 670.13 ⇨  
**खोंपी**  
 हल अँकुड़ी 563.9  
**खोंप्या**  
 ईख फोक 526.3  
 खोडिया 800.8  
 खोडिया गीत 796.21  
 फल छिलका 116.10  
**खोंई**  
 ईख फोक 526.3  
 कंबल लबादा 585.20  
**खोंई वस्तु**  
 वित्तव्य वस्तु 863.2  
**खोंई वस्तु प्राप्ति**  
 प्रतिलिखि 863.3  
**खोंई वस्तु मिलना**  
 खोजा जाना 863.5  
**खोंऊ**  
 अपव्ययी 644.24  
**खोंखर**  
 पोल 271.17  
**खोंखल**  
 तरु कोटर 603.2  
 पोल 271.17  
**खोंखला**  
 तरु कोटर 603.2  
 पोल 271.17  
**खोंखला [खोंखली]**  
 घेला [पोली] 271.25  
 रिक्त 1005.7  
**खोंखला आदर्श**  
 अध्यावहारिक आदर्श 829.6  
**खोंखला करना**  
 घूसना 181.46  
**खोंखला तना: नीका**  
 सारगा 1072.25  
**खोंखलापन**  
 पोलापन 271.18  
 विचारहीनता 330.7  
**खोंखा**  
**खोंखा** 602.4 ⇨  
 डिब्बा 678.1  
 तरु कोटर 803.2  
 झालक 230.23  
 हुकी 633.16  
**खोंखी**  
 बालिका 230.24  
**खों खों**  
**खों खों** 476.5 ⇨  
**खोंगीर**  
 नमदा 593.54  
**खोंज**  
 आधिकार 307.5  
**खोंज** 336.4 ⇨

जिज्ञासा 305.22  
 तथ्यान्वेषण 336.1  
 सुराग 867.1  
**खोंज इच्छा**  
**खोंज इच्छा** 336.5 ⇨  
**खोंज करना**  
 अनुसंधान करना 307.8  
 खोजना 336.17  
**खोंज कर्ता**  
 खोजी 336.25  
**खोंज खबर**  
 कुशल प्रश्न 710.7  
 खोज 336.4  
 पता निर्देश 444.14  
**खोंज खबर लेना**  
 कुशल क्षेम पूछना 710.16  
**खोंज दल**  
**खोंज दल** 336.9 ⇨  
**खोंजनहार**  
 प्रतिलिखा 863.9  
**खोंजना**  
 अनुसंधान करना 307.8  
 आधिकार करना 307.9  
**खोंजना** 336.17 ⇨  
 खोज पाना 863.6  
 तथ्यान्वेषण करना 336.16  
**खोंज निकालना**  
 आधिकार करना 307.9  
**खोंजने वाला**  
 खोजी 336.25  
 प्रतिलिखा 863.9  
**खोंज पाना**  
**खोंज पाना** 863.6 ⇨  
**खोंज प्राप्त**  
 प्रतिलिखि 863.8  
**खोंज प्राप्ता**  
 प्रतिलिखा 863.9  
**खोंज प्राप्ति**  
 प्रतिलिखि 863.3  
**खोंजबीन**  
 तथ्यान्वेषण 336.1  
**खोंज भिटाना**  
 नष्ट करना 531.5  
**खोंज में भटकना**  
**खोंज में भटकना** 336.18 ⇨  
**खोंज यात्रा**  
**खोंज यात्रा** 336.7 ⇨  
**खोंज यात्री**  
**खोंज यात्री** 336.8 ⇨  
**खोंज यात्री दल**  
 खोज दल 336.9  
**खोंज लेना**  
 खोज पाना 863.6  
**खोंज सफलता**  
 प्रतिलिखि 863.3  
**खोंजा**  
 अंत:पुर दास 651.9

## खोजा

### खोजा

अंतपुर पहरेदार 908.11  
कचुकी 467 14  
नपुंसक 238 18  
हिजड़ा 238 5

### खोजा [खोजी]

प्रतिलब्ध 863 8

### खोजा जाना

खोजा जाना 863 5 ⇨

### खो जाना

खो जाना 863 4 ⇨  
मार्गच्युत होना 1099.5  
मार्ग भ्रम होना 1099 4

### खोजासरा

अंतपुर पहरेदार 908 11

### खोजी

खोजी 336 25 ⇨  
गुप्तचर 866 12  
प्रतिलब्धा 863 9

### खोट

अपराध 861 1  
काव्य दोष 453 5  
कुव्यसन 812 7  
छल 827 7  
दुराशयता 818.4  
दुर्गुण 314 4  
धातु खोट 98 5  
रत्न दोष 98 2

### खोट (वे. धातु खोट)

अविशुद्धता 219 3

### खोट निकालना

दोष देखना 843 18  
विशोधित करना 219.6

### खोट मिलाना

खोट मिलाना 98.9 ⇨

### खोटयुक्त

खोटा [खोटी] 98 13  
दुर्गुणी 314.8

### खोटहीन

खरा [खरी] 98 12

### खोटा [खोटी]

अकल्याण कामी 711 11  
अधम 840 4

कूटकृत 98.14

खोटा [खोटी] 98.13 ⇨

गुंडा 811 7

दुराशय 818.9

दुर्गुणी 314 8

दुर्जन 818 5

निकृष्ट 314 5

### खोटाई

दुर्जनता 818 1

### खोटा नसीब

दुर्भाग्य 260.18

### खोटापन

अधमता 840 1

दुर्जनता 818 1

धातु खोट 98 5

### खोटा पैसा

कूट मुद्रा 98 8

### खोटा सिक्का

कूट मुद्रा 98 8

### खोटा सोना

अशुद्ध स्वर्ण 95 6

### खोड

टूटा दोंत 144 4

### खोड

पोल 271 17  
भूत बाधा 759 7  
भौतिक सकट 909 3  
लेंगड़ा लूला 153 20

### खोडर

तरु कोटर 603 2

### खोडरा

टूटा दोंत 144 4

### खोडिया

खोडिया 800 8 ⇨  
खोडिया गीत 796 21

### खोडिया गीत

खोडिया गीत 796 21 ⇨

### खोता

नीड 603 3

### खोद

खनन 1018.1  
गहरी खोज 336.6

### खोद कर गाड़ना

खोद कर गाड़ना 1018.13 ⇨

### खोद कर दबाना: कर

निखनन (गड़ाई) 1018.3

### खोद कर निकालना

खोद कर निकालना 1018 12 ⇨

### खोद कर निकालना: कर्म

उत्खनन 1018 2

### खोदना

उच्छेदन करना 1017.5  
उत्कीर्ण करना 406 36

कुरेदना 406 37

खोदना 1018.11 ⇨

गुड़ाई करना 548 44

### खोदना: कर्म

खनन 1018 1

### खोदनी

कुरेदनी 559.8

### खोदपूछ

तथ्यान्वेषण 336.1

### खोदा [खोदी]

खनित 1018.15

### खोन

ख्यान 885 11

### खोनचा

ख्यानचा 685 12

फेरी दुकान 662 3

### खोनचा क्रपोश

फेरी वाला 661.14

### खोनचा क्रपोश (वे. फेरी वाला)

ख्यानचा क्रपोश 194.12

### खोनचे वाला

फेरी वाला 661 14

### खोना

आश्चर्य होना 379 5  
खो जाना 863 4  
चोरी होना 864 43  
तल्लीन होना 331.9  
मार्गच्युत होना 1099 5  
मार्ग भ्रम होना 1099 4  
हानि होना 646 13

### खोना खिडाना

अपव्यय करना 644 15

### खोना पाना

लाभ हानि होना 646 9

### खोपड़ा

नारियल गिरी 112 6  
सिर 140 1

### खोपड़ी

कपाल 133 6  
टॉट 140 4  
नारियल खोपड़ी 112 5  
सिर 140 1

### खोपरा

नारियल 13 11  
नारियल- गिरी 112 6

### खोपा

जूडा 23.14

### खोब

चुभन 270 1

### खोभार

काल कोठरी 868.24  
सुअर बाड़ा 603 25

### खोमचा

ख्यानचा 685.12

### खोमचे वाला

फेरी वाला 661.14

### खोया

मावा 193 16

### खोया [खोई]

अप्राप्तमार्ग 1099 10

चुरा [चुरी] 864 51

तल्लीन 331.14

मार्गच्युत 1099 8

मार्गभ्रांत 1099 7

विलब्ध 863.7

समाधिस्थ 755 9

### खोया खोया [खोई खोई]

अंतराभिमुखी 838 14

### खोयापन

अंतराभिमुखता 838.6

चेतनाहीनता 264.2

तल्लीनता 331.6

समाधिस्थता 755.4

### खोर

गली 1063.49

### खोर

भक्षक 181.53

### खोर

सानी- नॉद 556 3

### खोरा

कटोरा 683 1

### खोरिया

कटोरी 683 6

### खोरी

भक्षण 181 10

### खोल

अंडा शल्क 116 7  
उत्तल सूची 985.21  
कधप पृष्ठ 134 19  
कवच 921 2  
गिलाफ 675 5

### खोल

डिब्बा 676 1

### खोल

तरकस 926 22  
त्वचा 134 1  
पिधान 675.3  
पोला 675 8  
बेठन 415 13  
मृदग 461 72

### खोल

म्यान 924.12

### खोल

यान अवतारण 1080 8

### खोल

लिफाफा 444 11

### खोल

विस्फार 119 3  
शिर कवच 921 5

### खोलक

लोह शिर कवच 921 6

### खोल कर

स्पष्टत 822 32

### खोल कर समझाना

व्याख्या करना 427.22

### खोलन

उन्मोचन 1015 1

विस्फारण 119 5

### खोलना

अनावृत करना 822 18  
अपिधानित करना 675 16

अवतारण करना 1080.36

आपरेशन करना 174 21

उन्मुक्त करना 1015 7

गत्वरित करना 1046 14

गॉट खोलना 574.7

ढीला करना 1015.8

रहस्य खोलना 822.16

विदीर्ण करना 544 13

विस्फारित करना 119.7

संस्थापित करना 693.5

### खोलने वाला

विस्फारक 119 13

### खोल बंद

टैपेट गति 1035.4



**खोल बंद छत्सा**  
खटका छत्सा 1016 30  
**खोला [खोली]**  
विस्फारित 119 12  
**खोसि**  
तरकस 926 22  
**खोली**  
कुठला 670 9  
**खोली**  
कोठरी 614 3  
**खोली**  
गिलाफ 675 5  
थैली 673 12  
पिधान 675 3  
**खोले**  
विस्फारित 119 15  
**खोल्क**  
धूमकेतु 3 9  
**खोरा**  
अनाज बाल 113 8  
फल गुच्छ 686 18  
**खोशाची**  
उछाहारी 204 11  
**खोशाचीनी**  
उछ कर्म 548 26  
**खोसना**  
छीनना 635 13  
**खोह**  
गुहा 15 9  
दर्रा 16 15  
मोंद 603 9  
**खोही**  
दर्रा 16 15  
पल्लव छाता 584 30  
**खोट**  
ब्रण खुरंड 167 14  
**खोस**  
रूसी 215 7  
**खी**  
गड्ढा 15 1  
**खीक**  
भय 395 1  
**खीकजद**  
भयभीत 395 19  
**खीकजदगी**  
सहमापन 395.4  
**खीकनाक**  
भयानक 395.25  
**खीर**  
मछली जाल 1013.13  
**खीलता [खीलती]**  
अति उष्ण 104.20  
**खीलना**  
अति क्रुद्ध होना 373.16  
उबलना 91.9  
**ख्यात**  
कथित 430.16  
ख्यात 847.3 ⇌

प्रचारित 442.18  
**ख्यातनाम**  
ख्यात 847 3  
**ख्यात होना**  
ख्याति होना 847 2  
**ख्याति**  
ख्याति 847.1 ⇌  
**ख्याति इच्छुक**  
ख्याति इच्छुक 847 5 ⇌  
**ख्यातिकर**  
ख्यातिप्रद 847 6  
**ख्यातित**  
प्रशसित 841 29  
**ख्यातिप्रद**  
ख्यातिप्रद 847 6 ⇌  
**ख्यातिहीनता**  
अख्याति 848 2  
**ख्याति होना**  
ख्याति होना 847 2 ⇌  
**ख्यापक**  
प्रचारक 442 19  
**ख्यापन**  
प्रचार 442 1  
**ख्याल**  
भाव 358 1  
**खिप्टान**  
ईसाई धर्मावलंबी 736 17  
**खिप्टी**  
ईसाई धर्मावलंबी 736 17  
ईसा विषयक 791.31  
**खिप्टी धर्म**  
ईसाई धर्म 736 16  
**खिप्टीय**  
ईसा विषयक 791 31  
**खिप्टीयत**  
ईसाई धर्म 736 16  
**खीप्ट**  
ईसा 791 8  
**ख्याजा**  
दल नायक 852 6  
हिजडा 238 5  
**ख्याजासरा**  
हिजडा 238 5  
**ख्यान**  
ख्यान 685.11 ⇌  
ख्यानचा 685 12  
थाल 685.1  
**ख्यानचा**  
ख्यानचा 685 12 ⇌  
**ख्यानचा फ़रोश**  
ख्यानचा फ़रोश 194.12 ⇌  
फेरी वाला 861 14  
**ख्यानपोश**  
ख्यानपोश 675 4 ⇌  
**ख्याब**  
स्वप्न 267.1  
**ख्याबगाह**  
शयन कक्ष 814 21

**ख्याह**  
अथवा 945.13  
**ख्याहनख्याह**  
विषयतः 901 13  
**ख्याहिषा**  
इच्छा 359 1  
**ख्याहिशामंद**  
इच्छुक 359 21  
**ख्याहिशी**  
ऐच्छिक 359 17  

---

**ग**

---

**गंग**  
गंगा नदी 20 10  
**गंगाटिटी**  
जलपक्षी सूची 126 7  
**गंगटोक**  
सिक्किम राजधानी 28.69  
**गंगबारा**  
नदी परित्यक्त भूमि 25.5  
**गंगरा**  
गंगरा 126 25 ⇌  
**गंगांबु**  
गंगाजल 88 9  
**गंगा**  
अपर्णा 776.10  
गंगा 774 33 ⇌  
गंगा नदी 20 10  
भंडार 670 3  
भारत उपमहाद्वीप नदी सूची 20.7  
सत्यवती 771 95  
**गंगा (दे.)**  
गंगा 774 33  
**गंगाधिल्ली**  
जलपक्षी सूची 126 7  
**गंगा जमुनी**  
काला सफ़ेद 289 76  
दुरगा [दुरंगी] 289.72  
**गंगाधर**  
गंगाजल 88.9 ⇌  
**गंगाजल: सुराही**  
गंगाजल: सुराही 679.16 ⇌  
**गंगाजली**  
गंगाजल सुराही 679 16  
पेचदार ढक्कन वाला लोटा 684 18  
**गंगा डोली**  
डंडा डोली 476.12  
**गंगाबस**  
भीष्म 771.77  
**गंगाबर**  
शिव 767.1  
समुद्र 24.1  
**गंगा नदी**  
गंगा नदी 20.10 ⇌  
**गंगा नहाना**  
गंगा स्नान 221.12

**गंगा नहाना**  
पुत्री का विवाह करना 799 47  
**गंगामुत्र**  
घाट पंडा 744 6  
वेद व्यास 789 21  
स्कंद 773.50  
**गंगामुख**  
बरतन टोटी 680 24  
**गंगा मैया**  
गंगा नदी 20 10  
**गंगा यमुना**  
गंगा यमुना 20.12 ⇌  
**गंगा-यमुना संगम**  
गंगा-यमुना संगम 20.13 ⇌  
**गंगाराम**  
तोता 126 44  
**गंगाल**  
गंगाल 679.24 ⇌  
पीपा 678 13  
बरतन टोटी 680.24  
**गंगा सागर**  
गंगा सागर 679 25 ⇌  
**गंगासुत**  
भीष्म 771 77  
स्कंद 773 50  
**गंगा स्नान**  
गंगा स्नान 221.12 ⇌  
पुत्री विवाह 799.7  
**गंगो जमुन**  
गंगा यमुना 20 12  
**गंगोदक**  
गंगाजल 88 9  
**गंगोल**  
गोमेद 96 9  
**गंज**  
कटी फ़सल ढेर 686 10  
केशहीन सिर 137 17  
गंजापन 137 16  
गोशाला 603 24  
ढेर 686.6  
बाज़ार 863 1  
भंडार घर 670 5  
मंडी 663.8  
महल्ला 619.6  
रत्न खान 92 15  
व्यापारिक नगर 620.17  
**गंजबख़्श**  
सर्वस्व दानी 641.30  
**गंजा**  
गंजा 137.30 ⇌  
मद्यपान पात्र 209.38  
रत्न खान 92.15  
**गंजा [गंजी]**  
केश मुंडित 224.13  
केशहीन 137.20  
गंजा 137.30  
मुंडित 798.44

## गंजाजिका

### गंजाजिका

- गोंजा 212.4  
**गंजा पटील**  
 केरा मुडित 224.13  
**गंजापन**  
 गंजापन 137.16 ⇌  
**गंजिका**  
 मद्यशाला 209.36  
**गंजिया**  
 खरिया 673 19  
 गंजिया 684.8 ⇌  
 जालीदार थैली 673 13  
**गंजी**  
 गंजी 587.2 ⇌  
 गंजेडी 212 14  
 छोटा ढेर 686 7  
**गंजी खोपकी**  
 केराहीन सिर 137 17  
**गंजीफ़ा**  
 तारा खेल 478 10  
**गंजू पटेल (हास्य)**  
 मुडित 798 44  
**गंजेडी**  
 गंजेडी 212.14 ⇌  
**गंठकटा**  
 जेबकट 864.14  
**गंठजोड़**  
 अट्ट संबध 715 3  
 गंठबंधन 800.9  
 विवाह 799.1  
**गंठना**  
 घनिष्ठ होना 704 18  
 सयुक्त होना 1010 17  
**गंठबंधन**  
 अट्ट संबध 715.3  
 गंठबंधन 800.9 ⇌  
 गुटबंदी 885 10  
 विवाहन 799 6  
**गंठा [गंठी]**  
 गंठा [गंठी] 577.29 ⇌  
 संग्रहित 573 15  
**गंठाई**  
 गंठाई 577 5 ⇌  
**गंठापन**  
 सुगठित कायता 160 6  
**गंठाव**  
 रचना विन्यास 527 8  
**गंठीला [गंठीली]**  
 ग्रथिल 573 19  
**गंठीलापन**  
 ग्रथिलता 573.5  
**गंठ**  
 अर्जुद 166 1  
 कपोल 140 15  
 गिलटी 166.4  
**गंठकः बटी**  
 शालग्राम बटी 938.47

### गंठक शिला

- शालग्राम बटी 938.47  
**गंठग्राम**  
 बड़ा गाँव 620 5  
**गंठतरा**  
 पोतका 583.14  
**गंठ लोम**  
 गलमुच्छा 136.2  
 नई कोमल दाकी 136 4  
**गंठस्थल**  
 कनपटी 140.14  
**गंठा**  
 आड़ी रेखा 968.20  
 गडा तावीज़ 759 4  
 चार समुदाय 687.6  
**गंठा तावीज़**  
 गंठा तावीज़ 759.4 ⇌  
**गंठा तावीज़ सूची**  
 गंठा तावीज़ सूची 759 5 ⇌  
**गंठारम**  
 घट्टान 99 14  
**गंठारसा**  
 गंठारसा 561.5 ⇌  
**गंठारसा**  
 गंठारसा 561 5  
 परशु 924 14  
 सप्तर्षि मंडल 3 10  
**गंठूर**  
 धातु मल 214 5  
 लौह मल 214 6  
**गंठव्य**  
 गठव्य 1100.1 ⇌  
 गंठव्य स्थान 1100 2  
**गंठव्यप्राप्त**  
 गठव्यप्राप्त 1100.6 ⇌  
**गंठव्य प्राप्त**  
 गठव्यप्राप्त 1100 6  
**गंठव्य प्राप्त होना**  
 गंठव्य प्राप्त होना 1100 5 ⇌  
**गंठव्य प्राप्ति**  
 गंठव्य प्राप्ति 1100.3 ⇌  
**गंठव्य स्थान**  
 गठव्य स्थान 1100.2 ⇌  
 पता 444 13  
**गंठा**  
 गंठा 1091.9 ⇌  
 यात्री 1087.2  
**गंठु**  
 गंठा 1091 9  
**गंठुक**  
 गंठा 1091.9  
 निर्गम कर्ता 1092 17  
 प्रवासी 618.29  
 यात्री 1087.2  
**गंठिका**  
 छोटी गाड़ी 1071.30  
**गंठी**  
 छोटी गाड़ी 1071 30

### ठेला 1071 6

- बस 1071.60  
 बैलगाड़ी 1071.42  
 यान 1070.1  
**गंद**  
 मल 214.1  
 मलिनता 217 1  
**गंदगी**  
 अश्लीलता 734.7  
 त्वचा मल 215.5  
 दुर्गंध 273 5  
 प्रदूषण 217 3  
 मल 214.1  
 मलिनता 217 1  
 विच्छा 216.2  
**गंदगी दूर हटाना**  
 स्वच्छ करना 218.24  
**गंद बकना**  
 गाली देना 433 6  
**गंदा**  
 व्यभिचारी 806 10  
**गंदा [गंदी]**  
 अप्रिय 370.5  
 अश्लील 734.19  
 कीचड़दार 214.10  
 कुलिखित 412.48  
 घृणित 370 6  
 दुरचरित्र 811 5  
 पुणित 169 15  
 प्रदूषित 217 8  
 मटियाला [मटियाली] 100 26  
 मलिन 217 6  
 संक्रामक 169.14  
**गंदापन**  
 मलिनता 217 1  
**गंदा पानी**  
 पूय 167 16  
 प्रक्षालित जल 220.3  
**गंदा लिखना**  
 कुलेखन करना 412 39  
**गंदी बस्ती**  
 गंदी बस्ती 619.2 ⇌  
**गंदी लिखाई**  
 कुलेख 412.12  
**गंदी हवा**  
 अपान वायु 245 15  
**गंदुम**  
 गेहूँ 187.8  
**गंध**  
 गंध 273.3 ⇌  
 निष्कर्षः प्रकार सूची 84.2  
 पुट 1008.6  
 षोडशोपचार सूची 750 4  
**गंध (नाक)**  
 इंद्रियार्थ सूची 268.10  
**गंधक**  
 गंधक 92.8 ⇌

### गंध कालिका

- सत्यवती 771.95  
**गंधकारम**  
 गंधक 92.8  
**गंधकुटी**  
 मुरा 274.24  
**गंध बाक**  
 अंगरू 274.11  
**गंध देना**  
 सुगंध फैलाना 273.8  
**गंध ब्रव्य प्रदान**  
 सुगंधार्पण 1059 22  
**गंधधारी**  
 शिव 767.1  
**गंध धूप**  
 गंध धूप 274.17 ⇌  
**गंधन**  
 आघ्राणन 273.2  
**गंध नकुल**  
 छरुंदर 127 68  
**गंध प्रयोग**  
 सुगंध उपभोग 274 1  
**गंध फैलाना**  
 सुगंध फैलाना 273 8  
**गंध बिखरेना**  
 सुगंध फैलाना 273 8  
**गंध बिलाव**  
 गंध बिलाव 127.58 ⇌  
**गंध मात्र**  
 पुट मात्र 1008 25  
**गंधमाद**  
 वानर (मरुत) 781 5  
**गंधमादन**  
 भ्रमर 122 33  
**गंधमादनी**  
 मद्य 209 1  
**गंध मार्जार**  
 गंध बिलाव 127 58  
**गंध मुषिक**  
 छरुंदर 127 68  
**गंध मृग**  
 कस्तूरी हिरन 127 45  
**गंध मैथुन**  
 सौंड 127 12  
**गंधयुक्त**  
 गंधयुक्त 273.13 ⇌  
**गंधयुक्ति**  
 चौंसठ कला सूची 397 4  
**गंधराज**  
 चंदन 274.20  
**गंधराजी**  
 नखी 274.23  
**गंधर्ष**  
 कोयल 126.21  
 गंधर्ष 778.3 ⇌  
 घोडा 127.35  
 देव योनि सूची 772.37

गंधर्व [गंधर्वी]  
गायक 460.17  
गंधर्व राज  
चित्ररथ 778 6  
गंधर्वः वाद्य  
शुषिर वाद्य 461 20  
गंधर्व विषयक  
गंधर्वीय 778 26  
गंधर्व वेद  
संगीत शास्त्र 457.2  
गंधर्व शैलूचः कन्या  
सरमा 784 28  
गंधर्व सूची  
गंधर्व सूची 778 5 ⇨  
गंधर्व स्त्री  
गंधर्व स्त्री 778 4 ⇨  
गंधर्वः स्त्री सूची  
गंधर्व स्त्री सूची 778.8 ⇨  
गंधर्विन  
गंधर्व स्त्री 778 4  
गंधर्वी  
अप्सरा 782 2  
गंधर्व स्त्री 178 4  
गंधर्वीय 778 26  
गंधर्वीय  
गंधर्वीय 778 26 ⇨  
गंध लेना  
सुंघना 273 7  
गंध लेप  
सुगंध लेप 274 3  
गंधवती  
पृथ्वी 9 1  
गंध बल्कल  
दारचीनी 281 20  
गंधवाह  
वायु 85 1  
गंध वृक्ष  
साल 13 26  
गंधव्य  
सुगंधव्य 274 4  
गंध शोखर  
कस्तूरी 274 15  
गंधहीन  
गंधहीन 273 14 ⇨  
गंधासु  
छट्टेंदर 127.68  
गंधाजीव  
इत्र व्यापारी 274.29  
गंधाकच  
गंधयुक्त 273.13  
सुगंधपूर्ण 273.15  
गंधाना  
दुर्गध फलाना 273.9  
सुगंध फलाना 273.8  
गंधा विरोजा  
गंधा विरोजा 1012 10  
गंधा विरोजा  
गंधा विरोजा 1012.10 ⇨

रंगव्य गौंद 1012.9  
गंधाया [गंधाई]  
किण्ठित 195.59  
गंधारी  
गंधारी 771 5.3  
गंधाली  
भिड़ 122 34  
गंधालु  
गंधयुक्त 273 13  
गंधित  
गंधयुक्त 273.13  
सुगंधित 274.31  
सौंधा [सौंधी] 197 47  
गंधित करना  
सुगंधित करना 274 30  
गंधी  
तेली [तेलिन] 83 9  
गंधेंद्रिय  
नाक 142 3  
गंधीतु  
ऊद बिलाव 124 5  
गंधीर  
अचचल 860 25  
अवाचाल 429 26  
कूट 823 12  
गंधीर स्वरीय 299 24  
गहरा [गहरी] 984 7  
चिताजनक 377 12  
दुर्बोध्य 519 23  
नितलीय 985 17  
शिव 767 1  
सकटात्मक 909 21  
सयमी 808 17  
स्थिरचित्त 355 6  
हासहीन 384 15  
गंधीर अध्ययन  
मीमासा 427 12  
गंधीरचित्त  
अचचल 860 25  
गंधीरता  
गहराई 984 1  
जलराशि गहराई 984 2  
दृक्मत्तता 343 2  
नितलीयता 985 8  
सयम 808.8  
स्थिरचित्तता 355 2  
गंधीर नाटक  
ट्रेजेडी 463 3  
गंधीर स्वर  
गंधीर स्वर 299.7 ⇨  
गंधीर स्वरीय  
गंधीर स्वरीय 299.24 ⇨  
गंधई  
ग्रामवासी 616.22  
ग्रामीय 620.20  
ग्राम्यतापूर्ण 734.18  
गंधई गौव  
छोटा ग्राम 820.4

गैबना  
खो जाना 863.4  
चोरी होना 864.43  
हानि होना 646 13  
गैवर  
ग्रामीय 620.20  
गैवर दल  
ग्राम्यतापूर्ण 734 18  
गैवा [गैवी]  
चुरा [चुरी] 864.51  
विलम्ब 863 7  
गैवाई  
अपव्यय 644 3  
विलम्बि 863.1  
गैवाऊ  
अपव्ययी 644 24  
गैवाना  
अपव्यय करना 644 15  
खो जाना 863.4  
गैवार  
अगुणज्ञ 306 18  
अप्रवीण 304 9  
अयोग्य 304 6  
अशिक्षित 321 42  
ग्रामवासी 616 22  
ग्राम्यतापूर्ण 734 18  
गैवारन  
ग्रामवासिनी 616 23  
गैवारपन  
ग्राम्यता 734 6  
गैवारा [गैवारी]  
ग्राम्यतापूर्ण 734 18  
गैवाराना [गैवारानी]  
ग्राम्यतापूर्ण 734 18  
गैवारापन  
ग्राम्यता 734 6  
गैवारिन  
ग्रामवासिनी 616 23  
गैवाल  
भाष्य (भाषा) 421 34  
ग्राम्यतापूर्ण 734 18  
भदेस 403 6  
गैवालपन  
ग्राम्यता 734.6  
भदेसपन 403.3  
गैसा [गैसी]  
कसा [कसी] 1013 25  
गैसीला [गैसीली]  
चुभनशील 270.18  
ग  
गांधार स्वर 459.9  
-ग (जैसे: पद्यग)  
गंता 1091.9  
ग (संकेताक्षर)  
गुरु मात्रा 452 40  
गई रात  
देर रात में 48.16

गउचाला  
गोशाला 603.24  
गऊ  
गाय 127 10  
गऊ दान  
गोदान 641 14  
गए जमाने के लोग  
अतीत जन 63 4  
गए बिनों  
पूर्व काल में 60 18  
गए बरत  
देर रात में 48 16  
गए बरत के लोग  
अतीत जन 63 4  
गगन  
अंतरिक्ष 2.3  
आकाश 2 1  
शून्य स्थान 33 4  
गगन गढ़  
गगनचुबी भवन 602 25  
गगनगत  
उड़ा [उड़ी] 1030 31  
गगन गिरा  
आकाश वाणी 465 5  
गगनचर  
ग्रह 7.2  
देवता 772 1  
पक्षी 126 1  
गगनचुबी  
अत्युच्च 982 10  
गगनचुबी 982 11 ⇨  
गगनचुबी भवन  
गगनचुबी भवन 602 25 ⇨  
गगन ध्वज  
मेघ 55 1  
सूर्य 8 1  
गगन पति  
इंद्र 773 5  
गगन बिहारी  
सूर्य 8 1  
गगनभेदी  
गगनचुबी 982 11  
गगन मणि  
सूर्य 8 1  
गगन बिहारी  
आकाश पिंज 3.1  
उड़डयमशील 1030.32  
तारा 3.2  
गगनस्पर्शी  
अत्युच्च 982.10  
गगनचुबी 982.11  
गगनगन्ना  
अप्सरा 782.2  
गगनगु  
वर्षा जल 88.5  
गगनीय  
आकाशीय 2.7

## गगरा

**गगरा**  
 घड़ा 679.1  
 पीतल घट 679.8  
**गगरिया**  
 छोटा घड़ा 679.2  
**गगरी**  
 छोटा घड़ा 679.2  
**गघ**  
 पक्का फर्श 610.2  
**गच्छ**  
 जैन मठ 745.11  
**गछना**  
 परस्पर निर्वाह करना 702.5  
 पूछना 333.19  
**गर्जद**  
 ऐरावत 780.5  
**गर्जवा**  
 ऐरावत 780.5  
**गज**  
 आठ उपमान सूची 948.32  
**गज**  
 कपड़ा. मापी 959.4  
 कामानचा 461.93  
**गज**  
 गज 959.11 ⇌  
**गज**  
 छड़ी 923.3  
**गज**  
 दिग्गज 780.1  
**गज**  
 मस्तूल अड़डडा 1073.14  
**गज: 1/16**  
 गिरह 959.12  
**गज: 1/2**  
 हाथ 959.18  
**गज: 1/3**  
 फुट 959.13  
**गज: 1/36**  
 इंच 959.9  
**गज: 1.760**  
 मील 959.25  
**गज: 220**  
 फरलांग 959.23  
**गज: 55-80**  
 जरीब 959.22  
**गजक**  
 उपाहार 200.1  
**गजक**  
 गजक 203.6 ⇌  
**गजक**  
 मद्य उपाहार 200.4  
**गजकर्ण**  
 यक्ष सूची 779.3  
**गजकाय**  
 महाकाय 154.22  
**गजकायता**  
 महाकायता 154.7

**गजगति**  
 गजगामिता 1084.4  
**गज गमन**  
 गजगामिता 1084.4  
**गजगमन करना**  
 गजगमन करना 1084.29 ⇌  
**गजगामिता**  
 गजगामिता 1084.4 ⇌  
**गजगामी [गजगामिनी]**  
 गजगामी [गजगामिनी] 1084.44 ⇌  
**गज गौन**  
 गजगामिता 1084.4  
**गज गौना [गज गौनी]**  
 गजगामी [गजगामिनी] 1084.44  
**गजघंटा**  
 मंदिर बड़ा घटा 461.29  
**गज चालक**  
 महावत 1082.15  
**गजट (अँ)**  
 समाचार पत्र 445.1  
**गजदंड**  
 पीपल 13.14  
**गजदंत**  
 गणेश 773.22  
 दीवार: खूँटी 1016.17  
**गजधर**  
 राजगीर 599.20  
**गजन**  
 शफरी 125.12  
**गजन (अँ)**  
 चप्पू. कुंडा 1073.7  
 भैंवर कुंडा 1077.19  
**गजनक**  
 गैडा 127.84  
**गजन पिन (अँ)**  
 भैंवर कली 1077.18  
**गजनासा**  
 सूँड़ 142.7  
**गजपति (विजय नगर)**  
 बज [बनी] पन्नाम (बच्च) सूँड़ 882.10  
**गजपाल**  
 महावत 1082.15  
**गज पिप्ली**  
 गज पिप्ली 281.14 ⇌  
**गज पीपल**  
 गज पिप्ली 281.14  
**गजपुट**  
 धातु संगलन 565.11  
 संगलन पात्र सूची 565.17  
**गजप्रिया**  
 चीड़ 13.7  
**गजब**  
 अत्याचार 835.3  
**गजब**  
 क्रोध 373.1  
 संकट 909.1  
**गजब का**  
 विलक्षण 312.16

**गजबीक**  
 अंकुश 555.20  
**गजबेली**  
 ढला लोहा 93.9  
**गज मुक्ता**  
 हस्ति मणि 96.21  
**गजमुख**  
 गणेश 773.22  
**गज मोती**  
 हस्ति मणि 96.21  
**गजर**  
 समय घोष 50.1  
**गजर दम**  
 प्रभात में 47.21  
**गजर बजना**  
 समय घोष होना 50.29  
**गजरा**  
 पुष्प माला 228.31  
**गजल**  
 गजल 452.22 ⇌  
**गजल: आरंभिक शेअर**  
 गजल: आरंभिक शेअर 452.30 ⇌  
**गजलगो**  
 गजलगो 448.23 ⇌  
**गजल लेखक**  
 गजलगो 448.23  
**गजल: समापन शेअर**  
 गजल: समापन शेअर 452.31 ⇌  
**गजबदन**  
 गणेश 773.22  
**गजबान**  
 महावत 1082.15  
**गजशाला**  
 गजशाला 603.21 ⇌  
**गजशीश**  
 गणेश 773.22  
**गज सेना**  
 गज सेना 932.13 ⇌  
**गजा**  
 मादा हाथी 127.39  
**गजाधर**  
 गदाधारी 930.9  
 विष्णु 768.1  
**गजानन**  
 गणेश 773.22  
**गजारि**  
 शिव 767.1  
 सिंह 127.50  
**गजारोह**  
 महावत 1082.15  
**गजारोही**  
 गजारोही 1082.11 ⇌  
**गजाला**  
 मादा हिरन 127.43  
**गजासन**  
 पीपल 13.14  
**गजास्थि**  
 हाथीदांत 96.30

**गजिनी**  
 मादा हाथी 127.39  
**गज़ी**  
 खादी 580.9  
**गजी**  
 गजारोही 1082.11  
 मादा हाथी 127.39  
 मोटा वस्त्र 579.8  
**गजेंद्र**  
 ऐरावत 780.5  
**गज़ीटिड आफिसर (अँ)**  
 राजपत्रित अधिकारी 652.9  
**गटई**  
 कंठ 145.9  
**गटक**  
 गटकन 207.2  
 पूर्ण भक्षण 181.11  
**गटक जाना**  
 पूरा खा जाना 181.34  
**गटकन**  
 गटकन 207.2 ⇌  
 निगलन 181.24  
**गटकना**  
 अधिग्रहण करना 635.10  
**गटका**  
 बड़ा ग्रास 181.28  
**गटका [गटकी]**  
 पूर्ण भक्षित 181.63  
**गटकू**  
 पूर्ण भक्षक 181.54  
**गटना**  
 अटकना 1024.9  
**गटागत**  
 अविरामत 1049.16  
**गट्टा**  
 गट्टा 149.11 ⇌  
 टखना 149.17  
 बीज समूह 112.9  
 शरीर प्रथि 132.8  
**गट्टर**  
 गट्टर 674.1 ⇌  
 बड़ी गठरी 674.5  
**गट्टा**  
 गड़डा 686.11  
 पूला 686.19  
**गट्टी**  
 गठरी 674.2  
**गठजोड़**  
 गैठबंधन 800.9  
 विवाह 799.1  
**गठन**  
 क्रम क्रामत 154.1  
 गैठार्ई 577.5  
 रचना विन्यास 627.8  
 संस्थापना 693.1  
**गठबंधन**  
 गैठबंधन 800.9  
 गुटबंदी 885.10

विवाह 799 1  
 गढबन्धन न करना  
 अपक्षधर होना 887 6  
 गढबन्धनहीन  
 अपक्षधर 887 9  
 गढबन्धनहीनता  
 अपक्षधरता 887 1  
 गढबन्धित  
 गुटबद 885 38  
 गढरी  
 गढरी 674 2  
 भार 963 1  
 सचिवा निधि 628 7  
 गढरी मुटरी  
 असबाब 1087 31  
 गढाव  
 रचना विन्यास 527 8  
 गढित  
 समर्थित 573 15  
 सधार्मित 545 26  
 सुगढितकाय 160 13  
 गढिया  
 खरिया 673 19  
 गढरी 674 2  
 छोटा पूला 686 20  
 राधियात 163 23  
 गढीला [गढीली]  
 सुगढितकाय 160 13  
 गढग  
 शरत्रागार 979 3  
 गढत  
 टोना टोटका सूची 759 3  
 गढ  
 खाई 15 8  
 समुदाय 687 1  
 गढगज  
 छोटा गुवद 611 6  
 टैक तोप गुवद 611 7  
 गढगड  
 गडगडाहट 297 10  
 भेड गडगडाहट 297 11  
 गडगडा  
 हुक्का 213 10  
 गडगडाना  
 घोर ध्वनि करना 294 17  
 गडगडाहट  
 गडगडाहट 297 10  
 तोप ध्वनि 296 20  
 गडगडाहट (दे.)  
 घोर ध्वनि 294 6  
 गडगडकी  
 डुगडुगी 461 42  
 नगाडा 461 58  
 गडगुवद  
 जीर्ण परिधान 583 4  
 गड जाना  
 लज्जित होना 845 6

गडन  
 गडन 1016 3  
 चुभन 270  
 गडना  
 चुभना 270 1  
 गडपना  
 सपोटना 181 48  
 गडप होना  
 डूबना 1031 20  
 गडप्पा  
 दलदल 25 28  
 गडबड  
 क्रमहीन 992 5  
 क्रमहीनता 992 1  
 धोटाला 865 8  
 गडबड करना  
 उपद्रव करना 903 13  
 गडबड झाला  
 क्रमहीनता 992 1  
 गडड चौथ 294 11  
 गडबडा  
 घास से ढँका गडडा 252 26  
 गडबडाना  
 अज्यवस्थित होना 894 6  
 उपद्रव करना 903 13  
 गडबडिया  
 उपद्रवकारी 903 17  
 गडबडी  
 अज्यवस्थितता 894 5  
 उपद्रव 903 1  
 क्रमहीनता 992 1  
 यत्र विकृति 536 2  
 गडबारा  
 लीवर 1062 3  
 गडमड  
 अज्यवस्थित 894 9  
 क्रमहीन 992 5  
 लुडका [लुडकी] 1031 29  
 गडमडपन  
 क्रमहीनता 992 1  
 गडरिया  
 ईसा 791 8  
 भेड बकरी पालक 555 2  
 गडरिया कर्म  
 भेड बकरी पालन 555 1  
 गड लवण  
 सॉभर नमक 279 8  
 गडवौत  
 रथ मार्ग 1063 13  
 गडवा  
 घडा 679 1  
 झारी 679 19  
 बैकू लोटा 684 19  
 लोटा 684 17  
 गडवी  
 छोटा धडा 679 2  
 झारी 679 19  
 लुटिया 684 16

गडहा  
 गडडा 15 1  
 गडही  
 छिछला गडडा 15 3  
 छोटा तालाब 18 11  
 गडा  
 कटी फसल ढेर 686 10  
 गडा [गडी]  
 गडा [गडी] 1016 46  
 निखनित 1018 17  
 स्थावर 1038 7  
 गडाई  
 गडाई 1016 4  
 धुसाई 1051 14  
 निखनन (गडाई) 1018 3  
 गडा न होना  
 जगम होना 1037 12  
 गडाना  
 गडाना 1016 38  
 पुरोडना 1051 29  
 दूढ आधारित करना 1019 12  
 गडापन  
 स्थावरता 1038 1  
 गडारी  
 आडी रेखा 968 20  
 गराशी 1077 37  
 घेर 972 6  
 वृत्त (चक्र) 972 1  
 गडासा  
 गडासा 561 5  
 गडा होना  
 स्थावर होना 1038 4  
 गडिया बैल  
 जात बैल 127 1  
 गडियार  
 कागघोर बैल 127 14  
 गडी नजर  
 ताक 284 14  
 गडु  
 बैपू लोटा 684 19  
 गडुआ  
 झारी 679 19  
 बैकू लोटा 684 19  
 गडुई  
 झारी 679 19  
 गडूलना  
 गडूलना 1071 27  
 गडूलना  
 रीतिरिधि मडल 3 10  
 गडुली  
 छोटी गडुली 1071 30  
 गडेर  
 घेर 972 6  
 गडेरिया  
 भेड बकरी पालक 555 2  
 गडोलना  
 गडूलना 1071 27

गडुड  
 गडुडा 686 11  
 गडुडम गोल  
 गपड चौथ 234 11  
 गडुडमडुड  
 असगत 439 5  
 गडुडर  
 नर भेड 127 25  
 गडुडरिका  
 अवराम गति 1049 2  
 भेड बकरी समूह 690 11  
 गडुडा  
 गडूलना 1071 27  
 गडुडा 686 11  
 देला 1071 6  
 पैक 1014 2  
 बैलगाडी 1071 42  
 बैल देला 1071 44  
 गडुडलका  
 अवराम गति 1049 2  
 गडुडी  
 गडुडी 686 12  
 छोटी गडुडी 1071 30  
 छोटी बैलगाडी 1071 43  
 जोत गडुडी 1071 28  
 दो सौ पान समुदाय 687 21  
 पैक 1014 2  
 बैलगाडी 1071 42  
 रामुदाग 687 1  
 गडुवा  
 खती 670 12  
 खोंचा 406 28  
 गडुवा 15 1  
 चहबच्चा 18 6  
 दबक 989 3  
 निम्नता उपमान सूची 983 7  
 निम्न विदु 983 4  
 मॉद 603 9  
 गडुवा खोदना  
 खोदना 1018 11  
 गडुवा पडना  
 दबकना 989 7  
 गडुवा बनाना  
 खोदना 1018 11  
 गडुवा भराई  
 गडुवा भराई 986 4  
 गडुडी  
 ताश गडुडी 686 13  
 गडवत  
 कथा कृति 450 3  
 काल्पनिक 308 18  
 गडाई 545 4  
 गप 440 7  
 गड  
 अडुडा 696 10  
 खाई 15 8  
 दुर्ग 620 7

## गढ़त

**गढ़त**  
रचना विन्यास 527.8

**गढ़न**  
अग अनुपात 155 1  
गढ़ाई 545 4  
भूर्ति निर्माण 598.8  
रचना कर्म 527 1  
रचना विन्यास 527.8

**गढ़ना**  
कल्पना से बनाना 308 12  
गढ़ना 545.22 ⇨  
रचित करना 527 9  
शिल्पित करना 557.13  
सत्य अपलाप करना 821.15

**गढ़नीय**  
गढ़नीय 545.30 ⇨

**गढ़नीयता**  
गढ़नीयता 545.15 ⇨

**गढ़ने वाला**  
गढ़ैया 545 5

**गढ़पति**  
दुर्गपाल 891.8

**गढ़पाल**  
दुर्गपाल 891 8

**गढ़ा**  
गढ़डा 15.1

**गढा [गढी]**  
काल्पनिक 308 18

**गढा [गढी]**  
गढा [गढी] 545 27 ⇨

**गढाई**  
गढाई 545.4 ⇨

**गढिया**  
गढैया 545 5

**गढी**  
छोटा दुर्ग 620.8  
हवेली 602 14

**गढीय**  
दुर्गीय 620.22

**गढैया**  
गढैया 545.5 ⇨  
छोटा तालाब 18 11

**गण**  
कंपनी 932 21  
कर्मचारी 652.27  
कर्मचारी समूह 652 28  
कोटि 936 1  
जनता 883.5  
जाति 730.1  
दल 891 1  
वार्षिक गण 452 42  
शिव गण 767 31  
संख्या 948.1  
समाज 688 1  
समूह 890.1  
सेवक 651.25  
सैनिक 934.1

**गणक**  
गणित्र 950 13  
टेलर 630 14  
परिगणक 950 20  
लेखापाल 632.32

**गणकार**  
कोटिकरण कर्ता 936 14

**गणगीर**  
गनगीर 57.6

**गणतंत्र**  
गणतंत्र 881.16 ⇨

**गणतंत्र दिवस**  
गणतंत्र दिवस 58.11 ⇨

**गणतंत्रवाद**  
गणतंत्रवाद 884 8 ⇨

**गणतंत्रात्मक**  
गणतंत्रात्मक 881 37 ⇨

**गणतंत्रीय**  
गणतंत्रात्मक 881 37

**गणतांत्रिक**  
गणतंत्रात्मक 881 37

**गणदेव**  
गण देवता 772.19

**गण देवता**  
गण देवता 772 19 ⇨

**गणधर**  
मुखिया 852.7

**गणन**  
कोटिकरण 936 5  
गणना कर्म 950 11

**गणन अंक**  
पूर्ण संख्या 949.11

**गणन कर्ता**  
परिगणक 950 20

**गणन संख्या (जैसे: एक, दो, तीन..)**  
पूर्ण संख्या 949 11

**गणनांक**  
पूर्ण संख्या 949.11

**गणना**  
उपस्थिति गणना 1021 4  
कुल संख्या 949 2  
गणना 950 1 ⇨  
गणना कर्म 950 11  
संख्या 948 1  
संख्या अंक 948 3

**गणना कर्ता**  
परिगणक 950.20

**गणना कर्म**  
गणना कर्म 950.11 ⇨

**गणनाथ**  
गणेश 773 22  
दल नायक 852 6  
राष्ट्र अध्यक्ष 882 1  
शिव 767.1

**गणना पद्धति**  
गणना प्रणाली 950 3

**गणना प्रणाली**  
गणना प्रणाली 950.3 ⇨

**गण नायक**  
गणेश 773.22  
दल नायक 852 6  
राष्ट्र अध्यक्ष 882 1

**गण नायकता**  
दल नायकता 852.5

**गण निधि**  
गण निधि 628 6 ⇨

**गणनीय**  
लोकमान्य 849 21

**गणपति**  
गणेश 773.22  
दल नायक 852 6  
राष्ट्र अध्यक्ष 882 1

**गणपति उत्सव**  
गणेश चतुर्थी 57 5

**गणपूर्ति**  
कोरम 941.2

**गणमान्य**  
गण्य 852 9  
प्रतिष्ठित 849 15  
लोकमान्य 849 21

**गणमान्य जन**  
विशिष्ट जन 728 13

**गणमान्यता**  
गण्यता 852 2  
प्रतिष्ठा 849 2  
लोकमान्यता 849 8

**गणराज्य**  
गणतंत्र 881 16

**गणराज्य दिवस**  
गणतंत्र दिवस 58.11

**गणधनु**  
वेश्या 807 5

**गणवासी देवता**  
गण देवता 772 19

**गण विषयक**  
जनता विषयक 883 9

**गणदेश**  
वरदी 589.14

**गण संपत्ति**  
राष्ट्रीय संपत्ति 624.3

**गण स्वामी**  
राष्ट्र अध्यक्ष 882 1

**गणाचल**  
केलास शिखर 17 2

**गणादृत**  
अलंकृत 854 23

**गणाधिप**  
दल नायक 852.6  
राष्ट्र अध्यक्ष 882.1

**गणाधिपति**  
दल नायक 852.6  
राष्ट्र अध्यक्ष 882.1

**गणाध्यक्ष**  
गणेश 773.22

दल नायक 852 6  
राष्ट्र अध्यक्ष 882.1  
शिव 767 1

**गणात्र**  
भोज सामग्री 183 18

**गणाम्ब्यास**  
सैनिक अभ्यास 907 30

**गणिका**  
जूही 14 18  
वेश्या 807 5  
सामान्या नायिका 456 15

**गणित**  
गणित शास्त्र 952 1  
गिना [गिनी] 950 12

**गणित कर्म**  
गणित कर्म 953 2 ⇨

**गणित कर्म: फल**  
गणित फल 953 3

**गणितकार**  
गणितज्ञ 952 2

**गणितज्ञ**  
गणितज्ञ 952 2 ⇨

**गणित ज्योतिष**  
खगोल विज्ञान 1 4

**गणित ज्योतिषी**  
खगोल विज्ञानी 1 5

**गणित फल**  
गणित फल 953 3 ⇨

**गणित विद्या**  
गणित शास्त्र 952 1

**गणित शास्त्र**  
गणित शास्त्र 952 1 ⇨

**गणित शास्त्रीय**  
गणित शास्त्रीय 952.10 ⇨

**गणितिक**  
गणित शास्त्रीय 952 10

**गणितीय**  
गणित शास्त्रीय 952 10

**गणितीय विश्लेषण**  
कलन गणित 953.6

**गणितीय समीकरण**  
गणित समीकरण 952.5 ⇨

**गणितीय सूत्र**  
समीकरण सूत्र 952.6

**गणित्र**  
गणित्र 950 13 ⇨

**गणीकरण**  
कोटिकरण 936 5

**गणीय**  
कोटीय 936.7  
जनता विषयक 883.9  
संस्थानीय 692.31  
सामूहिक 690 13

**गणेरक**  
वेश्या 807.5

**गणेरका**  
कुटनी 807 11

<b>गणेश</b>	<b>गत काल</b>	शरण 910 4	<b>गतिया</b>
गणेश 773.22 ⇌	भूत काल 36 10	सक्रमण 1091 3	विब 585 27
दल नायक 852 6	<b>गतकलांति</b>	संगीत गति 458 7	<b>गतियुक्तता</b>
पंचदेव सूची 772 33	विघ्नत 494 1	सचलन 1037.4	सचलता 1037 3
शिव. पुत्र सूची 767 22	<b>गतचेतन</b>	स्वर लय 465 12	<b>गतिरुद्ध</b>
<b>गणेश चतुर्थी</b>	चेतनाहृत 264 21	<b>गतिक ऊर्जा</b>	गतिरुद्ध 1047 23 ⇌
गणेश चतुर्थी 57.5 ⇌	<b>गतता</b>	गतिक ऊर्जा 101 2 ⇌	<b>गति रुद्धता</b>
<b>गणेश चौथ</b>	अतीतता 63 3	<b>गतिकता</b>	गति रुद्धता 1047.3 ⇌
गणेश चतुर्थी 57 5	<b>गत दिन</b>	गतिशीलता 1042 2	<b>गति रुद्ध होना</b>
<b>गणेशः पत्नी</b>	विगत कल 46.13	<b>गतिक बल</b>	गति रुद्ध होना 1047 16 ⇌
ऋद्धि सिद्धि 774 16	<b>गत प्रत्यागत</b>	गतिक बल 1050 1 ⇌	<b>गतिरोध</b>
गणेश पत्नी 773.25 ⇌	पुनरागत 1093 16	<b>गतिक बल (वे.)</b>	गतिरोध 1047.2 ⇌
<b>गणेशः पत्नी सूची</b>	<b>गतप्राण</b>	गतिक ऊर्जा 101 2	<b>गति रोधक</b>
गणेश पत्नी सूची 773 26 ⇌	मृत 249 23	<b>गतिकी</b>	गति रोधक 1047 24 ⇌
<b>गणेशः पिता</b>	<b>गत बनना</b>	गति विज्ञान 1042 4	<b>गति रोधन</b>
गणेश पिता 773 23 ⇌	दुर्दशा होना 627 13	<b>गतिकीय</b>	गति रोधन 1047 4 ⇌
<b>गणेश पूजन</b>	गतयीवन [गतयीवना]	गति विज्ञानीय 1042 13	<b>गतिरोधित्र</b>
शुभ आरभ. कृत्य सूची 521 3	वृद्ध [वृद्धा] 232 10	<b>गति ग्रहण</b>	वेग रोधक 1043 9
<b>गणेश पूजा</b>	<b>गतरजा</b>	वेग वृद्धि 1043 5	<b>गतिरोधी</b>
नाट्य आरभ सूची 468 24	रज निवृत्ता 130.14	<b>गति ग्रहण करना</b>	गति रोधक 1047 24
<b>गणेशः माता</b>	<b>गतलज्ज</b>	वेग बढ़ना 1043 10	<b>गतिवान [गतिवती]</b>
गणेश माता 773.24 ⇌	लज्जाहीन 846 8	<b>गतित</b>	गतिशील 1042 11
<b>गणेश माता</b>	<b>गतव्यस्क [गतव्यस्का]</b>	गत्वरित 1046 21	द्वुतगामी [द्वुतगामिनी] 1044 7
पार्वती 776 9	वृद्ध [वृद्धा] 232 10	<b>गति देना</b>	<b>गति विज्ञान</b>
<b>गणेशः वाहन</b>	<b>गतवैभव</b>	प्रणोदित करना 1051 19	गति विज्ञान 1042 4 ⇌
गणेश वाहन 773.27 ⇌	शोभाहीन 226 12	<b>गति न होना</b>	गति विज्ञानीय
<b>गणेश वाहन</b>	<b>गतभ्रम</b>	निरचल रहना 1038 6	गति विज्ञानीय 1042 13 ⇌
घूहा 127 60	विघ्नत 494 21	<b>गति नियमन</b>	<b>गतिविधि</b>
<b>गणेशीय</b>	<b>गतसंग</b>	वेग नियमन 1043 1	गतिविधि 502 2 ⇌
गणेशीय 773.54 ⇌	विरक्त 366 6	<b>गति पात</b>	<b>गतिविधि करना</b>
<b>गणेश्वर</b>	<b>गतागति</b>	थाप 458 51	गतिविधि करना 502 7 ⇌
गणेश 773 22	जीवन मरण 246.4	<b>गतिपाल</b>	<b>गतिविधिपूर्ण</b>
शिव 767 1	<b>गतायु</b>	गतिपाल चक्र 1077.40	गतिविधिपूर्ण 502 12 ⇌
<b>गण्य</b>	वृद्ध [वृद्धा] 232 10	<b>गतिपाल चक्र</b>	<b>गतिविधिहीन</b>
गण्य 852.9 ⇌	<b>गतार्तवा</b>	गतिपाल चक्र 1077.40 ⇌	गतिविधिहीन 503.13 ⇌
लोकमान्य 849.21	रज निवृत्ता 130.14	<b>गतिपूर्ण</b>	घटनाहीन 75.16
<b>गण्यता</b>	<b>गति</b>	गतिशील 1042 11	<b>गतिविधिहीनता</b>
गण्यता 852.2 ⇌	अभिनय गति 464 22	द्वुत 1044 6	गतिविधिहीनता 503.5 ⇌
<b>गत</b>	आकार रूप 967.5	<b>गति प्रतिगति</b>	<b>गतिविधि होना</b>
गत 1091.8 ⇌	ऊर्जा 101 1	गति प्रतिगति 1035 1 ⇌	गतिविधि होना 502.6 ⇌
गति 1042.1	एक धाव 484.2	<b>गति प्रतिरोध</b>	<b>गति विरामण</b>
छंद गति 452 35	काव्य गुण सूची 453 4	गति प्रतिरोध 1047.5 ⇌	विरामण 1048.2
दुर्दशा 627 8	काव्य प्रवृत्ति 453 13	<b>गति प्रवाता</b>	<b>गति वृद्धि</b>
निर्गमित 1092 15	गति 1042 1 ⇌	गत्वरण कर्ता 1046 22	वेग वृद्धि 1043 5
नृत्य गत 482 23	गति वेग माप 958 25	<b>गति प्रदान</b>	<b>गति वेग माप</b>
भूत कालीन 36.18	गति शैली 1084 1	प्रणोदन 1051.1	गति वेग माप 958.25 ⇌
बाद्य गत 458.10	गमन 1091 1	<b>गति प्रदानन</b>	<b>गतिशील</b>
व्यतीत 74.3	छंद गति 452 35	अनुप्राणन 1046.6	गतिविधिपूर्ण 502.12
संक्रमित 1091.14	परिस्थिति 69.5	गत्वरण 1046 1	गतिशील 1042.11 ⇌
संगीत गति 458.7	पैतरा 486.20	<b>गतिमान [गतिमती]</b>	चलिष्णु 1090.42
संगीत तर्ज 458.14	पैठ 1094.14	गतिशील 1042.11	प्रवाहशील 1041.8
स्वर लय 465.12	प्रवाह 1041 1	द्वुतगामी [द्वुतगामिनी] 1044 7	संचल 1037.19
<b>गतकल्प</b>	प्रवीणता 303.8	<b>गति माप</b>	स्फूर्त 491.13
पापनष्ट 813.10	मोक्ष 257.1	गति माप 958.26 ⇌	<b>गतिशीलता</b>
<b>गतका</b>	युक्ति 517.1	गति वेग माप 958.25	गतिशीलता 1042.2 ⇌
कनची 923.1	बाद्य गत 458.10	<b>गति मापी</b>	चलिष्णुता 1090.2
गतका 923.2 ⇌	विकल्प 516.1	गति मापी 958.27 ⇌	संचलता 1037.3
	वेग 1042.9		

## गतिशील लक्ष्य

**गतिशील लक्ष्य**  
चल लक्ष्य 931.2  
**गति शैली**  
गति शैली 1084.1 ⇨  
**गति स्तंभन**  
गति स्तंभन 1047.6 ⇨  
**गति स्तंभन होना**  
गति स्तंभन होना 1047.17 ⇨  
**गति स्तंभित**  
गति स्तंभित 1047.25 ⇨  
**गतिहरण**  
गतिहरण 1047.1 ⇨  
**गति हरण**  
निश्चलन 1038.3  
**गति हरना**  
गति हरना 1047.15 ⇨  
**गतिहर्ता**  
गतिहर्ता 1047.22 ⇨  
**गतिहीन**  
असहाय 701.8  
गतिरुद्ध 1047.23  
गतिहीन 1042.12 ⇨  
निश्चल 1038.8  
विकल्पहीन 516.5  
**गतिहीनतः**  
असहायतः 701.10  
**गतिहीनता**  
गति रुद्धता 1047.3  
गतिरोध 1047.2  
गतिहीनता 1042.3 ⇨  
निश्चलता 1038.2  
**गतिहृत**  
गतिहृत 1047.21 ⇨  
**गतिहृत होना**  
गतिहृत होना 1047.14 ⇨  
**गति ह्रास**  
वेग रोध 1043.7  
**गत्ता**  
कागज़ पटल 990.5  
गत्ता 415.12 ⇨  
**गत्ताल खाता**  
बट्टा खाता 639.4  
**गत्यवरुद्ध**  
गतिरुद्ध 1047.23  
**गत्यवरोध**  
गतिरोध 1047.2  
**गत्वर**  
गतिशील 1042.11  
गमनशील 1091.10  
संचल 1037.19  
**गत्वरक**  
गत्वरण कर्ता 1046.22  
संचल कर्ता 1037.21  
**गत्वरण**  
गत्वरण 1046.1 ⇨  
**गत्वरण (दे.)**  
संचालन 1037.5

**गत्वरण कर्ता**  
गत्वरण कर्ता 1046.22 ⇨  
**गत्वरता**  
गतिशीलता 1042.2  
**गत्वरित**  
गत्वरित 1046.21 ⇨  
**गत्वरित करना**  
गत्वरित करना 1046.14 ⇨  
**गत्वरित होना**  
गत्वरित होना 1046.15 ⇨  
**गत्वरित्र**  
घालित्र 1046.7  
**गदका**  
गतका 923.2  
**गदना**  
कहना 430.11  
**गदम (नाव)**  
ऊँटड़ा 1076.20  
**गदर**  
असफल विद्रोह 903.4  
**गदर**  
मांसयुक्त 132.18  
युवा 231.12  
**गदर**  
हुल्लड़ 294.14  
**गदरा [गदरी]**  
मांसयुक्त 132.18  
**गदराना**  
युवा होना 231.11  
**गदराया [गदराई]**  
युवा 231.12  
**गदह**  
गधा 127.30  
**गदहा**  
गधा 127.30  
**गदही**  
मादा गधा 127.31  
**गदांतक**  
अश्विनी कुमार 773.3  
**गदांबर**  
मेघ 55.1  
**गदा**  
गदा 923.4 ⇨  
**गदागद**  
अविराम 1049.10  
असंख्यतः 944.13  
**गदाग्रज**  
कृष्ण 771.1  
**गदाधर**  
गदाधारी 930.9  
विष्णु 768.1  
**गदाधारी**  
गदाधारी 930.9 ⇨  
**गदाल**  
लीवर 1062.3  
**गदाला**  
हलका गधा 593.44

**गदाली**  
लीवर 1062.3  
**गदी**  
गदाधारी 930.9  
**गदीला [गदीली]**  
गदीला [गदीली] 1050.36 ⇨  
गद्दार 593.67  
**गदीलापन**  
गदीलापन 1050.15 ⇨  
**गदेला**  
गद्दा 593.39  
हलका गद्दा 593.44  
**गदेली**  
गद्दा 593.39  
**गद्गद**  
अति आनंदित 382.20  
प्रसन्न 381.7  
भाव विभोर 358.28  
रोमांचित 382.21  
**गद्गदता**  
भाव विभोरता 358.14  
**गद्गद होना**  
भाव विभोर होना 358.20  
**गद्गदता**  
अति आनंद 382.4  
**गद्**  
जादुई लकड़ी 474.30  
**गद्दर**  
मांसयुक्त 132.18  
मोटा गद्दा 593.43  
युवा 231.12  
**गद्दा**  
गद्दा 593.39 ⇨  
टिप्पा 1052.10  
बिछोना 593.47  
**गद्दा: कपका**  
गद्दा: कपड़ा 579.18 ⇨  
**गद्दार**  
राष्ट्र द्रोही 827.21  
विश्वासघाती 827.19  
**गद्दारी**  
राष्ट्र द्रोह 827.6  
विश्वासघात 827.4  
**गद्दी**  
आसन 595.2  
गद्दी 595.13 ⇨  
छोटा गद्दा 593.41  
जीन 595.47  
दुकानदार. आसन 595.6  
पेड़ी 662.5  
यान सीट 1076.16  
शिशु गद्दा 593.40  
संत आसन 595.12  
सत्ता आसन 595.8  
सिंहासन 595.9  
**गद्दी छोड़ना**  
सत्ता त्यागना 902.18

**गद्दीधारी**  
सत्तारूढ़ 899.25  
**गद्दीनगीन**  
सत्तारूढ़ 899.25  
**गद्दीनशीनी**  
सत्तारोहण 899.14  
**गद्दी पर बैठना**  
सत्तारोहण करना 899.22  
**गद्दी से हटाना**  
सत्ताप्युत करना 902.19  
**गद्देदार**  
उछलनशील 1052.23  
गद्दीला [गद्दीली] 1050.36  
गद्देदार 593.67 ⇨  
**गद्घ**  
गद्घ 451.2 ⇨  
वर्णनीय 449.25  
**गद्घकार**  
गद्घकार 448.8 ⇨  
**गद्घ काव्य**  
काव्यात्मक गद्घ 451.3  
गद्घ 451.2  
**गद्घ पद्य काव्य**  
गद्घ पद्य काव्य 451.8 ⇨  
**गद्घ मंत्र**  
यजु मंत्र 741.9  
**गद्घ लेखक**  
गद्घकार 448.8  
**गद्घात्मक**  
अकाव्यात्मक 451.30  
**गद्धा**  
गद्धा 127.30 ⇨  
**गद्धा घोड़ा**  
विपरीतता उपमान सूची 310.13  
**गद्धा: बोली**  
रेंक 298.28  
**गद्धी**  
मादा गद्धा 127.31  
**गद्धे के सींग**  
असंभव घटना: उपमान सूची 75.17  
**गदन (औं)**  
तोप 927.2  
बंदूक 927.4  
**गदन कैरिज (औं)**  
तोप गाड़ी 1070.18  
**गदनगीर**  
गदनगीर 57.6 ⇨  
**गदन पावडर (औं)**  
बारूद 927.20  
**गदनबोट**  
गदनबोट 1072.45 ⇨  
**गदनबोट (औं)**  
गदनबोट 1072.45  
**गदन रनर (औं)**  
आयुध तस्कर 884.39  
**गदनल (औं)**  
अडबाल 1073.22



गनबेल (अँ)  
अङ्काल 1073.22  
गनी  
रूप 361 16  
धनाढ्य 626 14  
गनी बैग (अँ)  
बोरा 673 18  
गनीम  
डकेत 864 20  
गनीमत  
विजित सपति 624 4  
गनीमत जानना  
सतोष होना 360 8  
गनीमत होना  
सतोष होना 360 8  
गप  
गप 440.7 ⇨  
गपकना  
सपोटना 181 48  
गपड़ चौध  
गप 440 7  
गपड़ चौध 294 11 ⇨  
गपबाज़  
गपशप कर्ता 435 27  
गपबाज़ी  
गपशप 435 6  
गपबाज़ी करना  
गपशप करना 435 20  
गप भारना  
गपशप करना 435 20  
गपशप  
गपशप 435.6 ⇨  
गपशप करना  
गपशप करना 435 20 ⇨  
गपशप कर्ता  
गपशप कर्ता 435.27 ⇨  
गप हीकना  
गपशप करना 435 20  
गपिया  
गपशप कर्ता 435.27  
गपोड़  
डींगबाज़ 842 15  
गपोड़ शंख  
डींगबाज़ 842 15  
गप्य  
गप 440.7  
गप्पी  
गपशप कर्ता 435 27  
गप्पी 440.9 ⇨  
गप्पो  
गपशप कर्ता 435 27  
गप्पी 440.9  
गप्का  
बड़ा ग्रास 181 28  
गफ  
अप्रवेश्य 519 24  
अवेध्य 519.26  
छिद्रहीन 272.9

तोस 269 23  
सघन बुना 576 30  
गफ कपड़ा  
गहन वस्त्र 579 3  
गफपन  
सघन बुनावट 576 13  
गफ़लत  
असावधानी 498 1  
घेतनाहीनता 264 2  
तल्लीनता 331 6  
विस्मृति 357 4  
गफ़लती  
असावधान 498 6  
गफ़का  
गुफ़का 975 5  
गफ़फ़ेदार  
गुफ़फ़ेदार 975 27  
गवन  
गवन 865 7 ⇨  
बधक द्रोह 633 23  
गबरा [गबरी]  
दर्पी 858 13  
गबरू  
नवयुवक 231 2  
सरल 817 8  
गब्बर  
दर्पी 858 13  
हठी 349 14  
गब्र  
पारसी 736 28  
गभ  
स्त्री जननेद्रिय 152 12  
गभस्ति  
स्वाहा 774 104  
हस्त 149 2  
गभुआर  
जन्मजात केश 137 2  
शिशु 230 3  
गभ  
एक धाव 484 2  
गभ  
खिन्नता 380 2  
गभ  
गभन 1091 1  
गभ  
चिंता 377 2  
दुःख 391 1  
गभ  
निर्गम 1092 1  
गभ  
परश्चात्ताप 380 4  
गभ  
प्रयाण 907 25  
गभ  
शोक 383.1  
गभक  
अनुभाव 358 6  
गभक 458.11 ⇨

प्रतिध्वनि 294 4  
सुगंध 273 4  
गमकता [गमकती]  
सुगंधपूर्ण 273 15  
गमकना  
प्रतिध्वनि होना 294 16  
सुगंध फैलाना 273 8  
गम खाना  
सहानुभूति करना 393 11  
सहिष्णु होना 872 7  
गमख़्ख़ार  
सहिष्णु 872 16  
गमख़्ख़ारी  
सहानुभूति 393 3  
सहिष्णुता 872 4  
गमगम  
दमदम 296 11  
गमगमाहट  
दमदम 296 11  
गम गलत करना  
मद्यपान करना 209 40  
शोक विस्मृत करना 393 17  
गमगीन  
उदास 380 14  
खिन्न 380 10  
शोकग्रस्त 383 8  
गमगीनी  
उदासी 380 5  
खिन्नता 380 2  
गमगुसार  
सहानुभूति कर्ता 393 19  
गमज़दगी  
दुःखग्रस्तता 301 2  
गमज़दा  
दुःखी 391 24  
शोकग्रस्त 383 8  
गमटी  
लेवल क्रौंसिंग गुमटी 1064.17  
गमत  
गायक 1054.6  
गमथ  
मार्ग 1063 1  
गमन  
गमन 1091 1 ⇨  
गीना 800 11  
निर्गमन 1092 2  
निर्गम संकेत सूची 1092 20  
प्रयाण 907 25  
प्रवासन 618.4  
मार्ग गमन 1098 1  
गमन आगमन  
यातायात 1067 1  
गमन करना  
जाना 1091.6  
गमन कर्ता  
गंता 1091.9  
गमन काल  
गमन काल 1091.2 ⇨

मृत्यु काल 249 10  
गमनना  
जाना 1091 6  
गमन मार्ग  
निर्गम मार्ग 1092 3  
गमनशील  
गमनशील 1091 10 ⇨  
सक्रमणशील 1091 15  
गमना  
जाना 1091 6  
गमनाक  
दुःखद 391 25  
दुःखपूर्ण 391 23  
गमनागमन  
आदागमन चक्र 246 3  
गमनीय  
गम्य 518 18  
गम बूट्स (अँ)  
बरसाती जूता 588 17  
गमला  
कमोड 216 20  
गमला 551 25 ⇨  
गमाकिया  
ग्राम परिक्षेत्र 620 3  
ग्रामवासी 616 22  
गमी  
अमगल कार्य 737 1  
मृत्यु शोक 253 14  
गम्य  
आक्रम्य 518 21  
गम्य 518 18 ⇨  
झेय 305 38  
पारगम्य 1097 18  
बोध्य 518 17  
गम्यता  
आक्रम्यता 518 9  
गम्यता 518 6 ⇨  
झेयता 305 20  
पारगम्यता 1097.5  
प्रवेश्यता 1094 2  
गम्य मार्ग  
घलनीय मार्ग 1063.2  
गय  
असुर सूची 783.8  
गया [गई]  
अतीत 63 8  
गत 1091 8  
निर्गमित 1092 15  
भूत कालीन 36.18  
व्यतीत 74.3  
गया कल  
विगत कल 46 13  
गया गुजरा [गई गुजरी]  
नगम्य 853.10  
निकृष्ट 314.5  
निकृष्टतम 314.7  
गया गुजरापन  
अतीतता 63.3

## गद्यापन

### गद्यापन

- अतीतता 63 3  
**गया बीता** [गई बीती]  
 कंगाल 627 21  
 नगण्य 853 10  
 निकृष्ट 314.5  
**गया बहल**  
 भूत काल 36.10  
**गया: बट**  
 अक्षय बट 13 17  
**गरंड**  
 घक्की मेड़ 560 16  
**-गर**  
 रयेता 527 14  
**गर**  
 विष 177 2  
**-गर (जैसे: कारीगर)**  
 व्यवसायी 650 24  
**गरक**  
 बाढ़ग्रस्त 22 6  
**गरक्री**  
 खादर 552.5  
**गरगज**  
 फौसी तख्ता 871.12  
**गरगराहट**  
 धड़धड़ाहट 297 31  
**गरघन**  
 विषहर 177.11  
**गरज़**  
 आवश्यकता अनुभूति 524.8  
**गरज**  
 घोर ध्वनि 294 6  
 तोप ध्वनि 296 20  
 दहाड़ 298 22  
 मेघ गड़गड़ाहट 297 11  
**गरज़**  
 स्वार्थ 712 5  
**गरज़ कि**  
 सारांश उक्ति सूची 449 34  
**गरज तरज**  
 डॉट 373 11  
**गरजता [गरजती]**  
 घोर ध्वनिक 294 28  
**गरजना**  
 गुराना 373 19  
**गरजना तरजना**  
 डॉटना 373 25  
**गरज़मंद**  
 प्रयोजनार्थी 508 7  
**गरज़ यह कि**  
 सारांश उक्ति सूची 449 34  
**गरज़ से**  
 प्रयोजनतः 508 11  
**गरजा [गरजी]**  
 घोर ध्वनित 294 29  
**गरजे**  
 सारांश उक्ति सूची 449 34

### गरण

- निगलन 181 24  
**गरदन**  
 गरदन 145.5 ⇨  
 ग्रीवा 145 1  
**गरदन और गला**  
 ग्रीवा 145.1  
**गरदन क्रलम**  
 सिर काट कर मृत्यु दंड 871 7  
**गरदन: पट्टा**  
 गला पट्टा 555 14  
**गरदन: लंबे बाल**  
 अयाल 135 9  
**गरदन: सिर की ओर वाला बाह्य भाग**  
 गुदी 145 4  
**गरदन-सिर: जोड़**  
 कूकाट 145 3  
**गरदन हिलाना**  
 अस्वीकार करना 338 18  
**गरदनियाँ**  
 गरदनियों 868.4 ⇨  
**गरदान**  
 अनुपठन 321 28  
 आरंभिक ज्ञान 994.5  
**गरनाल**  
 गला खूँटा 555 12  
**गरब गहेला** [गरब गहेली]  
 दर्पी 858 13  
**गरबा**  
 डाडिया रास 462 10  
**गरम**  
 उत्तेजित 371 10  
 उत्साही 491 11  
 उष्ण 104 18  
 ऊनी 568 16  
 क्रुद्ध 373 28  
 गरमागरम 197.40  
 ग्रीष्म कालीन 53.17  
 तीक्ष्ण स्वभावी 838 9  
**गरम उढ़ावन**  
 भारी उढ़ावन 593 5  
**गरम कपड़ा**  
 ऊनी वस्त्र 579 9  
**गरम कमरा**  
 वाष्प स्नान कक्ष 221.19  
**गरम करना**  
 तपाना 104 16  
**गरम खाना**  
 ग्रीन हाउस 551 3  
**गरम घर**  
 ग्रीन हाउस 551 3  
**गरम जलवायु**  
 उष्ण जलवायु 51 4  
**गरम जल से धोना**  
 गरम जल से धोना 220.33 ⇨  
**गरम जलस्रोत**  
 गरम जलस्रोत 21 6 ⇨

### गरमजोशी

- स्फूर्ति 491.2  
**गरम तार**  
 जिंदा तार 102 9  
**गरम पानी: बोटल**  
 हॉट वाटर बोटल 104 8  
**गरम पेय**  
 गरम पेय 208.2 ⇨  
**गरम मसाला**  
 गरम मसाला 281.6 ⇨  
**गरम मिज़ाज**  
 क्रोधि 373 29  
 तीक्ष्ण स्वभावी 838.9  
**गरम मिज़ाजी**  
 तीक्ष्ण स्वभाव 838.2  
**गरम राख**  
 गरम राख 106.16 ⇨  
**गरम रेत**  
 गरम रेत 100.3 ⇨  
**गरम लगना**  
 उष्ण लगना 104.15  
**गरम लोहे पर (घोट करना)**  
 उपयुक्त अवसर पर 70 16  
**गरम होना**  
 उत्तेजित होना 371 7  
 क्रुद्ध होना 373 15  
**गरमागरम** /  
 अति उष्ण 104 20  
 गरमागरम 197 40 ⇨  
 तप्त 104 22  
**गरमागरमी**  
 तकरार 708 7  
**गरमाहट**  
 उष्णता 104.1  
 ताप 103.1  
**गरमी**  
 आवेश 371 1  
 उष्णता 104 1  
 उष्माघात 264 9  
 क्रोध 373.1  
 ग्रीष्म अनुभूति 53 7  
 ग्रीष्म काल 53.6  
 चार ऋतु सूची 51.14  
 ताप 103 1  
 दर्प 858 5  
 षडक्लेश सूची 761 19  
**गरमी का मौसम**  
 ग्रीष्म काल 53 6  
**गरमी की छुट्टी**  
 ग्रीष्म अवकाश 494.18  
**गरमी खाना**  
 उत्तेजित होना 371 7  
**गरमी खाना**  
 मरोड़ी 185 10  
**गरराना**  
 गुराना 373.19  
**गरल**  
 विष 177.2

### गरलधर

- शिव 767 1  
**गरवा**  
 ग्रीवा 145 1  
**गराँ**  
 भारी 963 13  
 महँगा [महँगी] 664.34  
**गरांडील**  
 लबा तगड़ा 154.15  
**गराज**  
 गराज 1069.28 ⇨  
**गराकी**  
 गरारी 1077.37  
 रथ मार्ग 1063 13  
**गराकी: किनारा**  
 ऑवठ 1000 11  
**गराकी बक्सा**  
 गीयर बॉक्स 1077 29  
**गरानी**  
 भारयुक्तता 963 2  
 व्यापारिक महँगाई 664 14  
**गरामी**  
 प्रतिष्ठित 849.15  
**गरारा**  
 कुल्ला 221 3  
 जनाना डीला पाजामा 586.8  
**गरारी**  
 गरारी 1077 37 ⇨  
 गरारी: दौता 1077 38  
 गीयर 1077 28  
**गरारी (दे.)**  
 घिरनी 1077.39  
**गरारी बक्का**  
 गीयर व्हील 1077.30  
**गरारी: दौता**  
 गरारी: दौता 1077.38 ⇨  
**गरिया**  
 अभिमान 858.1  
 गीरव 849 4  
 भारयुक्तता 963 2  
 भारीपन 963.4  
 महत्त्व 852 1  
 वैभव 226.5  
 सिद्धि देवी सूची 774.101  
**गरिमापूर्ण**  
 गीरवपूर्ण 849.18  
**गरिमाशाली**  
 गीरवपूर्ण 849.18  
 वैभवशाली 226 15  
**गरिमाहीन**  
 गीरवहीन 850.6  
**गरियाना**  
 गाली देना 433.8  
**गरियार**  
 कामघोर 490.10  
**गरियाल**  
 अप्रयत्नशील 490.9  
 कामघोर 490.10

स्फूर्तिहीन 492 14  
**गरिष्ठ**  
 कुपाध्य 178 7  
 स्निग्ध 197.16  
**गरिष्ठ आहार**  
 पक्का खाना 197 4  
**गरी**  
 गुठली बीजली 112 4  
 नारियल गिरी 112 6  
 -गरी (जैसे: कारीगरी)  
 व्यवसाय 650 9  
**गरीब**  
 दयनीय 834 10  
 दुर्दशाग्रस्त 627 22  
 निम्नवित्त 625 9  
 निर्धन 627 20  
 प्रवासी 618 29  
 संकटग्रस्त 909 19  
**गरीब खाना**  
 वक्ता गृह 601 2  
**गरीब गुरबा**  
 निर्धन जन 627 6  
**गरीब नवाज़**  
 अल्लाह 764 12  
 दीनदयालु 641 29  
**गरीब परवर**  
 दीनदयालु 641 29  
**गरीबान**  
 गरीबान 585 65  
**गरीबान चाक करना**  
 पागल होना 354 21  
**गरीबान में झोंकना**  
 आत्मनिरीक्षण करना 284 46  
**गरीबान में मुँह डालना**  
 लज्जित होना 845.6  
**गरीबी**  
 असहायता 701.2  
 निम्नवित्ता 825.5  
 निर्धनता 627.5  
**गरुड**  
 गरुड 777.15 ⇨  
 गरुड गिद्ध 128.27  
 विष्णु वाहन 768 14  
**गरुड अरुण आदि**  
 वैनतेय 777.11  
**गरुड गिद्ध**  
 गरुड गिद्ध 126.27 ⇨  
**गरुडध्वज**  
 कृष्ण 771.1  
**गरुड ध्वज**  
 गरुड स्तंभ 807.11  
**गरुडध्वज**  
 विष्णु 768.1  
**गरुड पुराण**  
 पुराण सूची 740.17  
**गरुड स्तंभ**  
 गरुड स्तंभ 807.11 ⇨

**गरुडांक**  
 विष्णु 768 1  
**गरुडाकार**  
 अहुरमपद 764 13  
**गरुडाप्रज**  
 अरुण 777 14  
**गरुडाशमा**  
 पत्रा 96 13  
**गरुत्-**  
 पख 151 1  
**गरुत्मान**  
 पक्षी 126 1  
**गरेबान**  
 गरेबान 585 65 ⇨  
**गरेबान: कंठा**  
 गरेबान कंठा 585 66 ⇨  
**गरेबान: कालर**  
 गरेबान कालर 585 67 ⇨  
**गरेली**  
 घिरनी 1077 39  
**गर्ल**  
 डूबा [डूबी] 1031 31  
 तल्लीन 331.14  
**गर्ग**  
 ऋषि मुनि सूची 789 17  
**गर्गर**  
 घर्घर 298 19  
 भेंवर 1040 24  
 मथन. पात्र 554 13  
**गर्गरी**  
 छोट्टा घड़ा 679 2  
**गर्ग**  
 प्रयोजन 508 1  
**गर्ज**  
 मेघ गड़गड़ाहट 297 11  
**गर्जन**  
 गड़गड़ाहट 297 10  
 घोर ध्वनि 294 6  
 विघाड 298 20  
 तोप ध्वनि 296.20  
 दहाड 298.22  
 युद्धनाद 907 15  
**गर्जन करना**  
 घोर ध्वनि करना 294 17  
**गर्जन तर्जन**  
 मेघ: गड़गड़ाहट 297 11  
**गर्जन बर्जन**  
 उँट 373.11  
**गर्जनशील**  
 घोर ध्वनिक 294.28  
**गर्जना**  
 घोर ध्वनि 294.6  
**गर्जर**  
 गाजर 189.14  
**गर्जित**  
 घोर ध्वनित 294.29  
**गर्टर**  
 गर्टर 597.20

**गर्डर**  
 गर्डर 597 20 ⇨  
**गर्डर (अँ)**  
 गर्डर 597 20  
**गर्त**  
 गड़दा 15 1  
 निम्न बिदु 983 4  
**गर्तकी**  
 दुनाई स्थल 562 18  
**गर्द**  
 धूलि 100 4  
 धूलि पुज 100 6  
**गर्दखोर**  
 पापोरा 593 56  
 मेलखोरा [मेलखोरी] 289 57  
**गर्दखोरा [गर्दखोरी]**  
 मेलखोरा [मेलखोरी] 289 57  
**गर्दभ**  
 गधा 127.30  
**गर्दभ चर्म**  
 कीमुख 582 8  
**गर्दभवाहिनी**  
 शीतला 774 91  
**गर्दभास्व**  
 छच्चर 127 32  
**गर्दभी**  
 मादा गधा 127 31  
**गर्दना**  
 धूलिमय 100.24  
**गर्दालू**  
 आलूचा 190 11  
 गालू बुखारा 191 3  
**गर्दालूद**  
 धूलिमय 100 24  
**गर्दिश**  
 गस्त 1083 16  
 परिवर्तन 532.1  
 पर्यटन 1090 6  
 संकट 909 1  
**गर्दिशे जमाना**  
 भाग्य चक्र 280.15  
**गर्दिशे बीरौ**  
 दुर्भाग्य 260.18  
**गर्दू**  
 जोत गाड़ी 1071 28  
 रथ 1071.46  
**गर्ध**  
 लोभ 359.6  
**गर्धी**  
 अभिमानी 858 10  
**गर्ध**  
 आरंभिक अवस्था सूची 994 23  
 गर्भगृह 745 44  
 गर्भाशय 152 14  
 भ्रू क्रोड 9 11  
 झूण 241.11  
**गर्ध केसर**  
 बीज कोश 112.7

**गर्भक्षय**  
 गर्भस्त्राय 241 5  
**गर्भगृह**  
 अंतर्भाग 999 4  
 गर्भगृह 745 44 ⇨  
**गर्भघात**  
 गर्भघात 241 4 ⇨  
**गर्भघातक [गर्भघातिका]**  
 गर्भघाती [गर्भघातिनी] 241.18  
**गर्भघाती [गर्भघातिनी]**  
 गर्भघाती [गर्भघातिनी] 241.18 ⇨  
**गर्भघ्नुति**  
 गर्भस्त्राय 241 5  
**गर्भज**  
 जरायुज 243.15  
**गर्भ झिल्ली**  
 जरायु 152 15  
**गर्भदान**  
 गर्भदान 241.1 ⇨  
**गर्भ धारण करना**  
 गर्भवती होना 241 13  
**गर्भध्वंस**  
 गर्भपात 241 6  
**गर्भ निरोध**  
 गर्भ निरोध 240 4 ⇨  
**गर्भ पतन**  
 गर्भपात 241.6  
**गर्भपात**  
 गर्भपात 241 6 ⇨  
**गर्भ भवन**  
 प्रसूति कक्ष 244 7  
**गर्भभोक्ष**  
 प्रसव 244 1  
**गर्भ भोचन**  
 गर्भ भोचन 241.7 ⇨  
 प्रसव 244 1  
**गर्भयुक्तता**  
 गर्भावस्था 241 9  
**गर्भ रोध**  
 गर्भ निरोध 240 4  
**गर्भ रोपण**  
 कृत्रिम गर्भदान 241.2  
**गर्भवती**  
 गर्भवती 241.14 ⇨  
**गर्भवती (पक्षी)**  
 गर्भवती (पक्षी) 241.15 ⇨  
**गर्भवती (पशु)**  
 गर्भवती (पशु) 241.16 ⇨  
**गर्भवती (मच्छली)**  
 गर्भवती (मच्छली) 241.17 ⇨  
**गर्भवती: इच्छा**  
 दोहद 798.5  
**गर्भवतीत्व**  
 गर्भावस्था 241.9  
**गर्भवती होना**  
 गर्भवती होना 241.13 ⇨  
**गर्भवध**  
 गर्भघात 241.4

## गर्भवास

**गर्भवास**  
गर्भस्थता 241 10  
**गर्भ शुद्धि**  
गर्भाशय शुद्धि 241 8  
**गर्भस्थ जीव**  
भ्रूण 241 11  
**गर्भस्थता**  
गर्भस्थता 241 10 ⇨  
**गर्भप्राव**  
गर्भप्राव 241 5 ⇨  
**गर्भहता [गर्भहत्री]**  
गर्भघाती [गर्भघातिनी] 241 18  
**गर्भांड**  
बीज 112 1  
**गर्भानाग**  
गर्भगृह 745 44  
गर्भाशय 152 14  
**गर्भानु**  
डिंबाणु 130 7  
**गर्भावत्ता**  
गर्भवती 241.14  
**गर्भाधान**  
गर्भाधान संस्कार 798 4  
सोलह संस्कार सूची 798 3  
**गर्भाधान संस्कार**  
गर्भाधान संस्कार 798 4 ⇨  
**गर्भावस्था**  
गर्भावस्था 241.9 ⇨  
**गर्भवास**  
गर्भस्थता 241 10  
**गर्भाशय**  
गर्भाशय 152 14 ⇨  
**गर्भाशय शुद्धि**  
गर्भाशय शुद्धि 241.8 ⇨  
**गर्भिणी**  
गर्भवती 241 14  
**गर्भिणी दोहद**  
दोहद 798 5  
**गर्भितता**  
गर्भावस्था 241 9  
**गर्भित होना**  
अंडरना 118 12  
**गर्भ**  
उष्ण 104.18  
गरभागरम 197 40  
**गर्भ बाजारी**  
चर्चितता 436 2  
**गर्भ**  
गीयर 1077 28  
धिरनी 1077 39  
**गर्भ**  
अभिमान 858 1  
दर्प 858.5  
**गर्भ गति**  
अभिमान गति 1084 2  
**गर्भ प्रथि**  
ब्रेच प्रथि 352.7

**गर्भ भंग**  
अभिमान भंग 911 3  
**गर्भरी**  
दुर्गा 776 7  
**गर्भहीन**  
अनभिमानी 859.6  
**गर्भिणी**  
रूप अभिमानिनी 860 22  
**गर्भित**  
रूप अभिमानी 860 21  
**गर्भित होना**  
अभिमानित होना 858 7  
**गर्भिता**  
रूप अभिमानिनी 860 22  
**गर्वी**  
दर्पी 858.13  
रूप अभिमानी 860 21  
**गर्वी [गर्भिणी]**  
अभिमानी 858.10  
**गर्वीला**  
रूप अभिमानी 860.21  
**गर्वीला [गर्वीली]**  
अभिमानी 858 10  
**गर्वीली**  
रूप अभिमानिनी 860 22  
**गर्वीकि**  
गर्वीकि 842 2 ⇨  
**गर्वीकि करना**  
गर्वीकि करना 842 7 ⇨  
**गर्वीकि कर्ता**  
गर्वीकि कर्ता 842.13 ⇨  
**गर्वीन्वत्त**  
दर्पी 858 13  
**गर्वीन्वत्तता**  
दर्प 858 5  
**गर्हण**  
निदन 843 2  
**गर्हणीय**  
निदनीय 843 21  
**गर्हा**  
कुवचन 432 1  
धिकार 843 5  
निदा 843 1  
**गर्हित**  
अधम 840 4  
कुख्यात 848 4  
घृणित 370.6  
निदित 843 20  
लाघित 843.23  
**गर्ह्य**  
निदनीय 843.21  
**गर्लतिका**  
छिद्रिल घट 679.5  
**गर्लती**  
छिद्रिल घट 679.5  
**गर्ल**  
मछली 125 1

**गर्लई**  
नीकाग्र 1073 23  
**गर्लकबल**  
गर्लकबल 134.14 ⇨  
**गर्लक**  
कठ 145 9  
**गर्लगंज**  
गाल बजाई 842 3  
**गर्लगंजना**  
गाल बजाना 842 8  
**गर्लगलिया**  
घरखी 126.35  
**गर्लग्वाज**  
गाल बजाई 842 3  
**गर्लग्वाजना**  
गाल बजाना 842.8  
**गर्लग्वाजी**  
गाल बजाऊ 842 14  
**गर्लगुच्छ**  
गर्लगुच्छा 136.2  
**गर्लग्रथि**  
गर्लग्रथि 132.10 ⇨  
**गर्लग्जदङ्गा**  
गर्लग्जदङ्गा 174.11 ⇨  
**गर्लतंस**  
उत्तराधिकारीहीन 623 26  
वंश नारा 727 9  
**गर्लतंस होना**  
वंश नारा होना 727 28  
**गर्लत**  
अधरितार्थ 439 9  
अनैतिक 816 4  
अवसर प्रतिकूल 70.15  
अवैध 878.27  
असंगत 439.5  
असत्य 821.1  
असत्यतापूर्ण 821 16  
तथ्यहीन 821.22  
दुर्गुणी 314.8  
नियम प्रतिकूल 879.19  
लक्ष्य ध्युत 931.23  
**गर्लत करना**  
असत्य सिद्ध करना 821 13  
**गर्लतकार**  
दुश्चरित्र 811.5  
भूल कर्ता 498 7  
**गर्लतकारी**  
दुश्चरित्रता 811 1  
**गर्लतकिया**  
गाल. तकिया 593.64  
**गर्लत को ठीक करना**  
संशोधन करना 537.8  
**गर्लतगोई**  
असत्य कथन 821.5  
असत्यवादिता 821.4  
**गर्लत: धिहन**  
अस्वीकृति धिहन 407.5

**गर्लत तराजू**  
गर्लत तराजू 962.11  
**गर्लत तराजू**  
गर्लत तराजू 962.11 ⇨  
**गर्लत तौल**  
गर्लत तौल 962.5 ⇨  
**गर्लत निशाना**  
असफल लक्ष्य 931.5  
**गर्लतनी**  
रस्सी सूची 570.6  
**गर्लत पाठ**  
अपपाठ 412 34  
**गर्लत फ्रहमी**  
गर्लत फ्रहमी 341 4 ⇨  
दैनन्त्य 706.10  
**गर्लत बयान**  
असत्य वचन 821 3  
**गर्लत बयानी**  
असत्य कथन 821 5  
असत्यवादिता 821.4  
**गर्लत बात**  
असत्य वचन 821 3  
**गर्लत बल्ल पर**  
असमयानुसारत: 62 23  
**गर्लत क्षम्य**  
अनुपयुक्त अवसर 70 4  
असमयानुसारत: 62.23  
**गर्लत क्षम्य पर**  
अनुपयुक्त अवसर पर 70 17  
**गर्लत है: भाव**  
असंगतता 439 1  
**गर्लत होना**  
असत्य होना 821 12  
**गर्लती**  
गर्लत फ्रहमी 341.4  
भूल 498 3  
भ्रम 342 1  
**गर्लती लगना**  
भ्रमित होना 342.9  
**गर्लती से**  
विचारहीनत: 330.30  
**गर्लथन**  
गर्लस्तन 134.16  
**गर्लथना**  
गर्लस्तन 134.16  
**गर्लथली**  
गर्लथली 145.11 ⇨  
**गर्लहार**  
मुख विवर 143 1  
**गर्लन**  
द्रवण 80.2  
पूयन 169.9  
वनस्पति क्षय 549.4  
**गर्लनांक**  
गर्लनांक 103.14 ⇨  
**गर्लना**  
डिदुरना 105.18  
द्रवित होना 80.4

धंसना 1031 19  
 पकना 195 57  
 पूयित होना 169 12  
**गलफञ्जा**  
 श्वास रघ्न 145 16  
**गलफञ्जी**  
 मछली 125 1  
**गलफाँसी**  
 फाँसी फदा 871 13  
 फाँसी मृत्यु दंड 871 5  
**गलफ्राँसी (व्यंग्य)**  
 गैकटाई 585 2  
**गलफू**  
 गलफू 145 12 ⇨  
**गलफूट**  
 बड़बड़ाहट 428 8  
**गलबल**  
 अरस्पष्ट उच्चारण 299 10  
**गलबल करना**  
 अरस्पष्ट उच्चारण करना 299 19  
**गलबलाना**  
 अरस्पष्ट उच्चारण करना 299 19  
**गलबलिया**  
 अरस्पष्ट उच्चारक 299 28  
**गलबाँही**  
 आलिंगन 237 8  
**गलबा**  
 जय 912 1  
 प्रताप 849 5  
**गलमास**  
 गलमास 134 15 ⇨  
**गलमाला**  
 कठहार 228 26  
**गलमुच्छ्रा**  
 गलमुच्छ्रा 136 2 ⇨  
**गलमुंडी**  
 काकल 145 10  
**गलस्तन**  
 गलस्तन 134 16 ⇨  
**गलस्तनी**  
 बकरी 127 22  
**गलहस्त**  
 गरदनियों 868 4  
**गलहार**  
 कठहार 228 26  
**गलही**  
 नौकाग्र 1073 23  
**गलही डेक**  
 अगला डेक 1073.28  
**गला**  
 आहार नली 145.8  
 कंठ 145 9  
 गुरेबान 585 65  
 प्रीया 145.1  
 बरतन. गला 680.25  
 बाघां तत्र 145.13  
 स्वर भंगिमा 299.4

**गला [गली]**  
 गला [गली] 197 31 ⇨  
 द्रवित 80 6  
 पूयित 169 15  
 सगलित 565 28  
 सडा [सड़ी] 197 48  
**गलाई**  
 धातु सगलन 565 11  
 सोना चाँदी सगलन 565 13  
**गला: खूँटा**  
 गला खूँटा 555 12 ⇨  
 गला चाक  
 गुरेबान 585 65  
**गला: जंजीर**  
 कठहार 228 26  
 गला जंजीर 555 13 ⇨  
**गला तर करना**  
 प्यास मिटाना 180 14  
 मद्यपान करना 209 40  
**गला दबाना**  
 बाधा रोधन करना 429 18  
**गलाना**  
 सगलित करना 565 24  
**गला. पट्टा**  
 गला पट्टा 555 14 ⇨  
**गला फाड़ना**  
 आर्तनाद करना 386 17  
**गला बैठना**  
 खर बैठना 299 20  
**गलाया [गलाई]**  
 द्रवित 80 6  
**गला रस्सी**  
 गला रस्सी 555 15 ⇨  
**गलावट**  
 द्रवण 80 2  
**गला साफ़ करना**  
 धंसकना 245 21  
**गलित**  
 गला [गली] 197 31  
 द्रवित 80 6  
 पूयित 169 15  
 सगलित 565 28  
 सडा [सड़ी] 197 48  
**गलित हिम**  
 जल 88 1  
**गलियारा**  
 क्लीइस्टर 745 24  
 गलियारा 615 8 ⇨  
**गलियारी**  
 गलियारा 615 8  
**गलियों का चक्कर**  
 कूचागर्दी 1090 4  
**गली**  
 गली 1063 49 ⇨  
 पता निर्देश 444 14  
 मध्य वीथिका 1063.52  
 महल्ला 619 6  
 यातायात लेन 1067.3

सक्रमण स्थल 1091 5  
**गली कूचा**  
 गली 1063 49  
**गली गली**  
 चतुर्दशत 29 36  
**गलीज**  
 घुणित 370 6  
 मलिन 217 6  
 विष्ठा 216 2  
**गलीजपन**  
 कलाहीनता 403 1  
**गलीलिया वासी**  
 ईसा 791 8  
**गले के नीचे उतारना**  
 पूरा खा जाना 181 34  
**गले तक**  
 ऊपर तक 1004 17  
**गलेबाज़**  
 गलेबाज़ 460 24 ⇨  
**गलेबाज़ी**  
 गलेबाज़ी 460 23 ⇨  
**गले लगाना**  
 आलिंगन करना 237 12  
**गलीछ**  
 गलमुच्छ्रा 136 2  
**गलीआ**  
 गलथैली 145 11  
**गल्प**  
 कथा कृति 450 3  
 गय 440 7  
 लीं 842 4  
**गल्थ**  
 वाचाल 428 22  
**गल्थम**  
 आउट 475 26  
**गल्ला**  
 अनाज 187 1  
**गल्ला**  
 कपाल 40 15  
**गल्ला**  
 केश बाक्स 630 4  
 गुल्लक 630 5  
**गल्ला**  
 पशु समूह 690.9  
**गल्ला**  
 रोकड़ 630 9  
 सामान 666 3  
**गल्ला क्रोश**  
 अनाज विक्रेता 663 12  
 पंसार 663 14  
**गल्लाबान**  
 कूचागर्दी 555.2  
**गल्ला मंडी**  
 अनाज मंडी 663.11  
**गवन**  
 गवन 1081 1  
 गीना 800 11

**गवनवा**  
 गीना 800 11  
**गवना**  
 गीना 800 11  
**गवय**  
 गाय 127 10  
**गवरनर**  
 राज्यपाल 891 3  
**गवर्नमेंट (अं)**  
 शासन 890 1  
**गवर्नमेंटी**  
 शासकीय 890 20  
**गवर्नर**  
 प्रतिनिधि सूची 888 27  
**गवर्नर (अं)**  
 प्रात प्रशासक 882 31  
 राज्यपाल 891.3  
 वेग नियामक 1043 16  
**गवर्नर जनरल (अं)**  
 राज्यपाल 891 3  
**गवर्नर्स हाउस (अं)**  
 राज्यपाल भवन 602 36  
**गवर्निंग (अं)**  
 शासन कर्म 890 3  
**गवर्निंग कांसिल (अं)**  
 शासन समिति 692 26  
**गवर्नस**  
 गवर्नस 720.4 ⇨  
**गवर्नस (अं)**  
 गवर्नस 720 4  
**गवाक्ष**  
 गवाक्ष 608 15 ⇨  
**गवाघना**  
 खो जाना 863 4  
**गवादन**  
 घास 11 6  
 घरागाह 556 10  
 सानी नौद 556 3  
**गवार**  
 रोघक 400 12  
**गवारा**  
 रोघक 400 12  
 सस्य 872 18  
**गवारा न करना**  
 सहन न करना 873.9  
**गवाशान**  
 चांडाल 254 10  
**गवाह**  
 प्रत्यक्ष दर्शी 284 51  
 साक्षी 876.13  
**गवाह होना**  
 प्रत्यक्ष देखना 284.34  
**गवाही**  
 साक्ष्य 876.12  
**गविनी**  
 गाय समूह 890.10  
**गविष्ठ.**  
 दानव सूची 783.13

## गविष्टि

### गविष्टि

**गुद इच्छा** 907.2  
**गवीरा**  
 सीङ 127 12  
**गवेरुक**  
 गेरु 290 21  
**गवेरुक**  
 खोजी 336 25  
**गवेरुक दल**  
 खोज दल 336 9  
**गवेरुणा**  
 खोज 336 4  
**गवेरुणा यात्रा**  
 खोज यात्रा 336.7  
**गवेरित**  
 अनुसंधानित 307 15  
 तथ्यान्वेषित 336.23  
 प्रतिलब्ध 863.8  
**गवेरी**  
 खोजी 336 25  
**गवेरि**  
 दैत्य सूची 783 19  
**गवेया**  
 गायक 460.17  
**गव्य**  
 गाय दुग्ध 193.4  
 गाय समूह 690 10  
**गव्या**  
 गाय समूह 690 10  
 चापकर्ण 972 10  
**गव्यु**  
 गुदेष्युक 907 41  
**गव्युति**  
 चरागाह 556 10  
**गवा**  
 चेतनाहीनता 264 2  
 भूर्च्छा 264 5  
**गवा खाना**  
 मूर्च्छित होना 264 17  
**गवत्**  
 गस्त 1083 16 ⇌  
 चक्रावृत्ति 71 4  
 वायु सेवन 1085 4  
 संक्रमण 1081.3  
**गवत् लगाना**  
 गस्त लगाना 1083.23 ⇌  
**गवत् लगाने वाला**  
 गस्त लगाने वाला 1083.26 ⇌  
**गवती**  
 गस्ती 1083.27 ⇌  
 चक्रावृत्तिशील 71 12  
 पुनरावर्तित 73.4  
**गवती कार**  
 पुलिस गाड़ी 1070.14  
**गवती घर**  
 कैरेवान 1071.57  
**गवती चिट्ठी**  
 लकुलर 442.10

**गवती पहरेदार**  
 गस्ती पहरेदार 908.15 ⇌  
**गवती यान**  
 स्पेस शटल 1075.11  
**गसीला [गसीली]**  
 छिद्रहीन 272 9  
 तोस 269.23  
**गस्सा**  
 ग्रास 181 26  
**गहगड्ड**  
 गहरा [गहरी] 984 7  
**गहगह**  
 उत्सवपूर्वक 56.11  
**गहगहा [गहगही]**  
 उत्सवपूर्ण 56 9  
**गहगहे**  
 उत्सवपूर्वक 56.11  
**गहन**  
 अगम्य 519 25  
 अप्रवेश्य 519 24  
 अवेध्य 519 26  
 अस्पष्ट 823 11  
 कूट 823 12  
 गहन 1004 16 ⇌  
 गहरा [गहरी] 984 7  
 ग्रहण 6 1  
 दुर्बोध 519 23  
 पकड़ 868 3  
 रहस्यपूर्ण 823 13  
 सघन 81 15  
**गहन (अंधकार)**  
 गहन (अंधकार) 286 16 ⇌  
**गहन अंधकार**  
 गहन अंधकार 286 2 ⇌  
**गहन अध्ययन**  
 गहन अध्ययन 321.24 ⇌  
**गहनतः**  
 अस्पष्टतः 823 15  
**गहनता**  
 अगम्यता 519 9  
 अप्रवेश्यता 519 8  
 अवेध्यता 519 10  
 अस्पष्टता 823.1  
 गहनता 1004 6 ⇌  
 गहराई 984.1  
 सघन अवस्था 79 8  
**गहन निद्रा**  
 गहन निद्रा 266.3 ⇌  
**गहन नील**  
 वर्णाली रंग सूची 289.9  
**गहन प्रभाव**  
 गहन प्रभाव 511.6 ⇌  
**गहन प्रभाव छोड़ना**  
 गहन प्रभाव छोड़ना 511.12 ⇌  
**गहन प्रभावित**  
 गहन प्रभावित 511.15 ⇌  
**गहन प्रभावी**  
 गहन प्रभावी 511.19 ⇌

**गहन बात**  
 मूल तथ्य 820 16  
**गहन बन**  
 गहन बन 12 7 ⇌  
**गहन वस्त्र**  
 गहन वस्त्र 579.3 ⇌  
**गहना**  
 आभूषण 228 1  
 पकड़ना 868.30  
**गहनी**  
 नीका छिद्र रोधन 272 5  
**गहभागहनी**  
 उत्सवपूर्णता 56 2  
 हड़बड़ी 496 5  
**गहरा [गहरी]**  
 अगम्य 519 25  
 अगाध्य 984 10  
 अघचल 860 25  
 अति अनुभवी 303 18  
 अप्रवेश्य 519 24  
 आंतरिक 999 12  
 कूट 823 12  
 गहन 1004 16  
 गहन (अंधकार) 286 16  
 गहरा [गहरी] 984 7 ⇌  
 घनिष्ठ 1704 27  
 दीवबाज़ 819 19  
 नतोर 989 9  
 नितलीय 985 17  
 संसिक्त 1008 29  
 सुरजित 291 16  
 स्थिरचित्त 355 6  
**गहराई**  
 कूटता 823 2  
 गहराई 984.1 ⇌  
 यार आयाम सूची 964 13  
 जल नितल 985 10  
 जलराशि गहराई 984 2  
 तीन आयाम सूची 964.10  
 पैठ 1094.14  
 ससिक्त मिश्रण 1008.4  
**गहराई नापना**  
 गहराई मापना 958 56  
**गहराई माप**  
 गहराई माप 958.17 ⇌  
**गहराई मापना**  
 गहराई मापना 958.56 ⇌  
**गहराई में**  
 गहरे 984.11  
**गहराई से**  
 सुक्ष्मतः 426 42  
**गहरा काला**  
 गहरा काला 289.38 ⇌  
**गहरा गड्डा**  
 गहरा गड्डा 15.2 ⇌  
**गहरा नीला**  
 गहरा नीला 289.50 ⇌

**गहरापन**  
 गहनता 1004 6  
 गहराई 984 1  
 रंग छाया 289 3  
**गहरा बादल**  
 काला मेघ 55 3  
**गहरा लाल**  
 गहरा लाल 289.61 ⇌  
**गहराव**  
 गहराई 984 1  
 नतोदरता 989 1  
**गहरा वार**  
 मारक प्रहार 918 6  
**गहरा संबंध**  
 घनिष्ठ संबंध 715 4  
**गहरी खोज**  
 गहरी खोज 336 6 ⇌  
**गहरी खोज करना**  
 गहरी खोज करना 336 19 ⇌  
**गहरी पकड़**  
 तीक्ष्ण दृष्टि 282 2  
**गहरी बात**  
 मूल तथ्य 820.16  
**गहरे**  
 गहरे 984 11 ⇌  
 नितल मे 985 20  
**गहरे पैठना**  
 अध्ययन करना 321 35  
 गहरी खोज करना 336 19  
**गहरेबाजी**  
 गाड़ी दौड़ 484 6  
**गहरे से**  
 सूक्ष्मतः 426 42  
**गहवारा**  
 पीद. क्यारी 551 18  
**गहा [गहरी]**  
 आबद्ध 1013 22  
**गहाई**  
 पकड़ 868 3  
 फेटाई 195 13  
**गहागड्ड**  
 गहरा [गहरी] 984 7  
**गहागह**  
 उत्सवपूर्वक 56 11  
**गहाना**  
 फेटना 195 45  
**गहाया [गहाई]**  
 फिटा [फिटी] 195.60  
**गहेला [गहेली]**  
 अभिमानी 858.10  
 पागल 354.24  
 हठी 349 14  
**गह्वर**  
 अगम्य 519.25  
 गड्डा 15.1  
 गहरा [गहरी] 984 7  
 गुप्त 824.20  
 गुहा 15.9

निम्न बिंदु 983 4  
बिल 603 7  
गह्वरता  
नतोदरता 989 1  
गांगी  
दुर्गा 776 7  
गांगेय  
गणेश 773 22  
चाँदी 95 3  
भीष्म 771 77  
स्कंद 773 50  
गांगेयी  
हिलसा 125 16  
गाँज  
कटी फ़सल ढेर 686 10  
छोटा ढेर 686 7  
गाँजना  
संराशित करना 667 10  
गाँजा  
गाँजा 212 4 ⇨  
गाँठ  
अकुरण बिंदु 117 2  
अवयव संधि 139 10  
उँगली पोरवा 150 21  
कठोर विष्टा 216 3  
गट्टर 674 1  
गठरी 674 2  
गिलटी 166 4  
गुठली 112 3  
ग्रथि 572 1  
ग्रंथिल कद 111 11  
घुडी 977 5  
घीकोर गठरी 674 3  
जेब 672 1  
टेट 672 6  
डब 672 7  
डील 165 8  
धोती साड़ी गाँठ 586 29  
फदा 572.8  
बड़ी गठरी 674 5  
विवाह 799 1  
वैमनस्य 706.10  
शरीर ग्रथि 132 8  
गाँठ कसाई  
ग्रथि सुदृढन 573.2  
गाँठ चुलाई  
ग्रथि मोचन 574.3  
गाँठ खोलना  
गाँठ खोलना 574.7 ⇨  
गाँठ खोलने वाला  
ग्रथि मोचक 574.13  
गाँठगैदीला [गाँठगैदीली]  
ग्रंथिल 573.19  
गाँठगैदीलाचन  
ग्रथिलता 573.5  
गाँठ गोभी  
गाँठ गोभी 189.15 ⇨  
साग सब्जी सूची 189 4

गाँठदार  
ग्रंथिल 573 19  
गाँठदार मूल  
गाँठदार मूल 112 11 ⇨  
गाँठना  
कसना 1013 18  
गाँठना 577 25 ⇨  
जोतना 1079 17  
संग्रथित करना 573 10  
सिलाई करना 577 23  
गाँठबंद  
क्रेटबंद 1014 10  
गाँठ बैधाई  
क्रेटबंदी 1014.5  
गाँठबधन 800 9  
सग्रथन 573 1  
गाँठबनाई  
क्रेटबंदी 1014 5  
गाँठ बाँधना  
गाँठ लगाना 573 11  
गाँठ लगाई  
सग्रथन 573 1  
गाँठ लगाना  
गाँठ लगाना 573.11 ⇨  
गाँठर घास मूल  
गाँठर घास मूल 112.15 ⇨  
गाँठर जड़  
गाँठर घास मूल 112 15  
गाँठा  
घक्की मेड़ 560 16  
पेड़ पीधा: क़लम 113.7  
गाँठीव  
अर्जुन धनुष 771 39  
गाँठीवधारी  
अर्जुन 771.36  
गाँठी  
छोटी गाड़ी 1071 30  
छोटी बैलगाड़ी 1071 43  
बैलगाड़ी 1071 42  
गाँधना  
गाँठना 577 25  
सूत्रबद्ध करना 573 12  
गांधिनी चुत  
स्कंद 773.50  
गांधर्व  
गांधर्वीय 778.26  
गांधर्व विवाह  
गांधर्व विवाह 799.23 ⇨  
गुप्त विवाह 799.17  
गांधर्वी  
दुर्गा 776.7  
वाचा 299.1  
गांधार  
गांधार स्वर 459.9  
राग रागिनी सूची 457.24  
सप्तक स्वर सूची 459.8  
गांधार स्वर  
गांधार स्वर 459.9 ⇨

गांधारी  
गाँजा 212 4  
गांधारी 771.53 ⇨  
गांधारी: भाई  
शकुनि 771 88  
गांधारिय  
दुर्योधन 771 60  
गांधी  
इत्र व्यापारी 274 29  
गांधी आग्रम  
खादी केंद्र 576.23  
गांधी कैप  
गांधी टोपी 584 8  
गांधी चरखा  
गांधी चरखा 562 8 ⇨  
गांधी जयंती  
गांधी जयंती 58 13 ⇨  
गांधी टोपी  
गांधी टोपी 584.8 ⇨  
गांधी दर्शन  
गांधीवाद 884.21  
गांधी नगर  
गुजरात राजधानी 28 24  
गांधीवाद  
गांधीवाद 884 21 ⇨  
गांधीर्व  
काव्य गुण सूची 453 4  
गहराई 984 1  
गाँव  
ग्राम 620.1  
गाँव गली  
पता निर्देश 444 14  
गाँव गाँव  
घटुदिरात 29 36  
गाँव गाँठ  
ग्राम 620 1  
गाँव चौपाल  
पंचायत घर 695 4  
गाँवका  
ग्राम परिक्षेत्र 620.3  
गाँव: पुरोहित  
गाँव: पुरोहित 744 13 ⇨  
गाँव: मुखिया  
ग्राम: मुखिया 892.6  
गाँव बाला  
ग्रामवासी 616.22  
गाँस  
कटाक्ष 844.3  
गाँस 938.12 ⇨  
बाण: फल 926 21  
वैमनस्य 706.10  
शत्रुता 706.1  
गाँसना  
अवरुद्ध करना 1047.19  
कसना 1013.18  
छेदन 271.20  
संग्रथित करना 573.10  
सूत्रबद्ध करना 573.12

गाँसी  
गाँस 938 12  
छल 827 7  
बाण: फल 926 21  
भाला: फल 925 6  
गा  
गांधार स्वर 459.9  
गाइड  
गाइड 427.7 ⇨  
गाइड (अँ)  
गाइड 427.7  
निर्देश पुस्तक 446 21  
पर्यटन प्रदर्शक 1090 18  
मार्ग प्रदर्शक 1098 4  
व्याख्या पुस्तक 446 31  
गाइड बुक (अँ)  
निर्देश पुस्तक 446 21  
गाइनेकोलाजिस्ट (अँ)  
स्त्री रोग चिकित्सक 173 9  
गाइनेकोलाजी (अँ)  
स्त्री रोग चिकित्सा 173.8  
गाउन  
गाउन 585 48 ⇨  
गाउन (अँ)  
गाउन 585 48  
चोगा 585 22  
गाऊघप  
अधिग्रहणशील 635.18  
गागर  
छोटा घड़ा 679 2  
मंथन पात्र 554 13  
गागरिया  
छोटा घड़ा 679.2  
गागरी  
छोटा घड़ा 679 2  
गाछ  
पीधा 111 14  
वृक्ष 111.18  
गाछी  
उपवन 12 11  
छोटा वृक्ष 111 20  
बोरा 673.18  
गाज  
विद्युत पात 55.11  
गाज गिरना  
संकट आना 909.13  
गाजना  
घोर ध्वनि करना 294.17  
गाज पकना  
संकट आना 909.13  
गाजर  
गाजर 189.14 ⇨  
साग सब्जी सूची 189.4  
गाज़री  
वीर पुरुष 395.2  
गाज़री (इसलामी)  
धर्मार्थ योद्धा 742.30

## गाझिन दूध

### गाझिन दूध

सघन दूध 193 6

### गाटर

गर्डर 597 20

### गाटा

यान जुताई 1079 1

### गाड

खत्ता 15 4

खत्ती 15 5

गड्ढा 15 1

### गाड (अँ)

गीड 764 14

### गाड कर रखना

गाड कर रखना 645 6 ⇨

### गाडना

खोद कर गाडना 1018 13

गाड कर रखना 645 6

दफन करना 253 32

दृढ आधारित करना 1019 12

### गाडना: कर्म

गड्ढाई 1016 4

### गाडा

घात गड्ढा 252 25

ठेला 1071 6

बैलगाडी 1071 42

### गाडी

कार 1071 55

गाडी डिब्बा 1076 3

छोटी बैलगाडी 1071 43

जोत गाडी 1071.28

ठेला 1071 6

बध्वा गाडी 1071 26

बैलगाडी 1071 42

बैल ठेला 1071 44

यान 1070 1

सप्तर्षि मंडल 3 10

### गाडी: अग्रभाग टिकान लकडी

उँटका 1076.20

### गाडीखाना

गाडीघर 1069 26

### गाडीघर

गराज 1069 28

गाडीघर 1069.26 ⇨

### गाडी चालक

यान चालक 1079 23

### गाडी: टैक

उँटका 1076 20

उलरुआ 1076 21

### गाडी: डिब्बा

गाडी डिब्बा 1076.3 ⇨

### गाडी: दल

यान समूह 1088.6

### गाडी दीड

गाडी दीड 484.6 ⇨

### गाडी: पृष्ठ भाग टिकान लकडी

उलरुआ 1076.21

### गाडी बैठना: स्थान

यान बैठका 1076 15

### गाडीयान

गाडीयान 1079 9 ⇨

### गाडीयान सीट

गाडीयान सीट 595 45 ⇨

### गाडी वाला

गाडीयान 1079 9

ठेले वाला 1071 7

### गाडी सवारी

यान आरोहण 1082 16

### गाडी हिरन

रेनडियर 127 47

### गाडता

घनिष्ठता 704 13

### गाडा

खादी 580 9

मोटा वस्त्र 579 8

### गाडा [गाडी]

कठिन 519 18

घनिष्ठ 704 27

जमा [जमी] 81 18

प्रगाड 81 14

सकटात्मक 909 21

स्कदित 81 17

### गाडा [गाडी] (जैसे: दूध)

मसालेदार 281 42

### गाडा दूध

सघन दूध 193 6

### गाडा द्रव

थक्का 938 24

### गाडापन

प्रगाडता 81.1

स्कदित अवस्था 79 6

### गाडा बनाना

जमाना 81 12

### गाडा रस

गाडा रस 84 4 ⇨

शीरा 280 10

### गाडा वस्तु

संकट काल 909 7

### गाडा हो कर जमना

स्कदित होना 81 10

### गाडा होना

जमना 81 11

प्रगाड होना 81 8

### गाडी छनना

घनिष्ठ होना 704 18

### गाडी दोस्ती

घनिष्ठता 704 13

### गाडी नीह

गहन निद्रा 266.3

### गाडे का साथी

निस्वार्थ मित्र 705.10

### गाणपत

गणेशीय 773.54

### गाणपत्य

गणेशीय 773 54

दल नायकता 852.5

### गाणितिक

गणित शास्त्रीय 952 10

### गाणेश

गणेशीय 773 54

### गात

अग 139 8

शरीर 139 1

### गाता

गधर्व 778 3

गायक 460 17

### गाती

उत्तरीय धारण शैली सूची 585 8

### गात्र

अग 139 8

शरीर 139 1

### गात्रयान

सुडौल 155 4

### गात्रावरण

कवच 921 2

दाल 921 1

### गात्रोपघात

पक्षाघात 264 11

### गाथ

पूजा गीत सूची 749 26

स्तोत्र 741 16

### गाथक

स्तोत्र गायक 460 36

### गाथा

अवैदिक धार्मिक छंद 452 7

आर्या 452 9

कथा कृति 450.3

प्रशसा गाथा 841 7

प्राकृत सूची 421.9

मरसिया 452 24

श्लोक 452 17

### गाथाकार

प्रबध कवि 448.19

### गाथिक

कथा गायक 749.17

### गाथिका

गीत 451 19

श्लोक 452 17

### गाद

तलछट 526 7

मिट्टी गारा 100.9

### गादड

कामचोर बैल 127.14

गीदड 127 75

### गादर

कापुरुष 395.29

### गादी

गादी 595 13

### गादुर

चमगादड 127.67

### गाध

गहराई माप 958.17

गाध स्थल 984.6

### गाध स्थल

गाध स्थल 984 6 ⇨

### गाधा

गायत्री 774 34

### गाधिसुत

विश्वामित्र 789 20

### गाधेय

विश्वामित्र 789 20

### गाध्य

गाध्य 984 9 ⇨

बोधय 518 17

### गाध्यता

गाध्यता 984 5 ⇨

### गान

गायन 460 16

गीत 451 19

### गान: आरंभिक स्वर

तोमनोम 458 18

### गान धौकी

गायक दल 460 19

### गान मंडली

गायक दल 460 19

### गान वाद्य

गायन वादन 460 8

### गान वेद

सगीत शास्त्र 457 2

### गाना

अनुलाप करना 435 21

गाना 460 43 ⇨

गायन 460 16

गीत 451 19

प्रशसा गाना 841 25

मिष्ट भाषण करना 431 5

वर्णन करना 449 19

### गाना बजाना

आनंद मगल 382 3

उत्सव मनाना 56.7

सगीत 457 1

### गाने वाला

गायक 460 17

### गाने वाली

गायिका वेश्या 807.6

### गाफ्रिल

असावधान 498.6

चेतनाहीन 264.20

तल्लीन 331 14

स्मृतिनष्ट 357.10

### गाभ

पल्लवाकुर 113 3

पशु भ्रूण 241 12

### गाभा

पल्लवाकुर 113.3

पशु भ्रूण 241 12

शाखा 114 10

### गाभिन

गर्भवती (पशु) 241 16

### गाम

एक पद 1083.2



ग्राम 620 1  
**गामज़न**  
 द्रुतगामी [द्रुतगामिनी] 1044 7  
**गामी**  
 गमनशील 1091 10  
**गामी [गामनी]**  
 गता 1091 9  
 गतिशील 1042 11  
**गाय**  
 गाय 127 10 ⇨  
**गाय आदि:** गले से लटकी ललरी  
 गलकबल 134 14  
**गायक**  
 गायक 46 17 ⇨  
 गीतकार 448.18  
 पार्श्व गायक 460 28  
 संगीतज्ञ 457 3  
**गायक [गायिका]**  
 गायक 460 17  
**गायक के साथ सुर प्रदान**  
 दमराजी 460 25  
**गायक दल**  
 गायक दल 460 19 ⇨  
**गायक दल: मुखिया**  
 गायक दल मुखिया 460 20 ⇨  
**गायक पक्षी**  
 गायक पक्षी 126 8 ⇨  
**गायक पक्षी सूची**  
 गायक पक्षी सूची 126 9 ⇨  
**गायक मंडली**  
 गायक दल 460 19  
**गायकवाङ्**  
 उजा [उनी] फदनाम (मसत) सूच 882 11  
**गायक वादक**  
 किन्नर 778 1  
**गायक वृंद**  
 गायक दल 460 19  
**गायकी**  
 गायन 460 16  
 संगीत 457 1  
**गायख़ोर**  
 गोभक्षी 205 6  
**गायघर**  
 गोशाला 803 24  
**गाय चमड़ा**  
 गो चर्म 582 9  
**गाय घर कर लीटना: समय**  
 गोधुलि बेला 47 12  
**गाय घरने जाना: समय**  
 सगव बेला 47 8  
**गायत्री**  
 गंगा नदी 20 10  
 गायत्री 452.12 ⇨  
 गायत्री 774.34 ⇨  
 दुर्गा 776.7  
 पार्वती 776 9  
 ब्रह्मा. पत्नी सूची 766 6  
 साम गायक 741 13

सावित्री 774 97  
**गायत्री: द्रष्टा**  
 विश्वामित्र 789 20  
**गायत्री मंत्र**  
 मंत्र सूची 741 4  
**गायत्री वल्लभ**  
 शिव 767 1  
**गाय: दूध**  
 गाय दूध 193 4 ⇨  
**गायन**  
 कठ संगीत 457 5  
 गायन 460 16 ⇨  
 गीत 451 19  
**गायन करना**  
 गाना 460 43  
**गाय: नर शिशु**  
 गाय नर शिशु 230 14  
**गायन वादन**  
 गायन वादन 460 8 ⇨  
 संगीत 457 1  
 संगीत कर्म 460 1  
**गायन शास्त्र**  
 संगीत शास्त्र 457 2  
**गायन शैली**  
 संगीत तर्ज़ 458 14  
**गायब**  
 अदृश्यमान 282 20  
 असमक्ष 1022 6  
 घू मतर कृत 474 39  
 नष्ट 531 7  
 पलायित 916 19  
 भूमिगत 824 23  
 विलुप्त 824 24  
 समाप्त 942 20  
**गायब करना**  
 चोरी करना 864 44  
 घू मतर करना 474 34  
**गायब करने वाला**  
 विलोपक 824 25  
**गाय: बछड़ा**  
 गाय बछड़ा 230 14 ⇨  
**गाय: बछिया**  
 गाय बछिया 230 15 ⇨  
**गायब होना**  
 नष्ट होना 531 4  
 फरार होना 916 16  
 विलुप्त होना 824 17  
**गायबाना**  
 असमक्षत 1022 8  
 गुप्तत 824 29  
**गाय बैल**  
 गाय बैल 127 9  
**गाय बैल: चरवाहा**  
 गाय बैल चरवाहा 556 9  
**गाय बैल पालन**  
 गो पालन 554 2  
**गाय बैल**  
 गाय बैल 127.9 ⇨

**गाय बैल**  
 दुग्ध पशु 554 17  
**गाय बैल: कोमल भूरा चर्म**  
 बफ 582 15  
**गाय बैल: चरवाहा**  
 गाय बैल चरवाहा 556.9 ⇨  
**गाय बैल पालन**  
 दुग्ध पशु पालन 554 1  
**गाय बैल: बोली**  
 रभाहट 298 27  
**गाय: मादा शिशु**  
 गाय बछिया 230 15  
**गाय वाला**  
 गोस्वामी 554 4  
**गाय समूह**  
 गाय समूह 690.10 ⇨  
**गाया [गाई]**  
 गायित 460 46  
**गायिका**  
 गायिका वेश्या 807 6  
**गायिका वेश्या**  
 गायिका वेश्या 807 6 ⇨  
**गायित**  
 गायित 460 46 ⇨  
**गारंटी**  
 गारंटी 339 13 ⇨  
 गारंटी कार्ड 339 6  
**गारंटी (अं)**  
 गारंटी 339 13  
**गारंटी कार्ड**  
 गारंटी कार्ड 339 6 ⇨  
**गारंटीड (अं)**  
 परतुकताहीन 339 38  
**गारंटी शुल्क**  
 गारंटी शुल्क 339 14 ⇨  
**गारंटी से**  
 अपरतुकत 339 51  
**गार**  
 गड्डा 15 1  
 गुहा 15 9  
 भांद 603 9  
**गारत**  
 नष्ट 531 7  
**गारद**  
 छोटा दस्ता 932 25  
 पहरा 908 5  
 पहरेदार 908 9  
 सैनिक अभ्यास 907 30  
**गारा**  
 दलदल 25 28  
 मिट्टी गारा 100 9  
**गारुडी**  
 सैंपेरा 473.25  
**गार्गी**  
 ऋषि स्त्री सूची 789.25  
 दुर्गा 776 7  
**गार्गियन (अं)**  
 अनिपिता 720 12

**गार्ड (अं)**  
 पहरेदार 908 9  
**गार्ड आक्र आनर (अं)**  
 सम्मान परेड 1083.9  
**गार्ड कोच (अं)**  
 गार्ड डिब्बा 1076 9  
**गार्ड डिब्बा**  
 गार्ड डिब्बा 1076 9 ⇨  
**गार्नेट (अं)**  
 रत्न सूची 96.5  
**गार्बेज ट्रक (अं)**  
 कूड़ा गाड़ी 1071 5  
**गार्ड**  
 गृहीय 601 13  
**गार्डपत्य अग्नि**  
 यज्ञानि सूची 106.5  
**गार्डस्थ**  
 गृहस्थ आग्रम 235 1  
 गृहस्थी पालन 235.6  
**गार्डस्थ धर्म पालन**  
 प्राजापत्य विवाह 799 26  
**गार्हिक**  
 पारिवारिक 726 13  
**गार्ह्य**  
 गृहीय 601 13  
**गाल**  
 कपोल 140 15  
**गाल: गड्ढा**  
 कपोल गड्ढा 140 18  
**गाल: तकिया**  
 गाल. तकिया 593.64 ⇨  
**गाल बजाई**  
 गाल बजाई 842 3 ⇨  
**गाल बजाऊ**  
 गाल बजाऊ 842 14 ⇨  
**गाल बजाना**  
 गाल बजाना 842.8 ⇨  
**गालव**  
 ऋषि मुनि सूची 789 17  
 लोभ 14 24  
**गाल: हड्डी**  
 कपोल अस्थि 133 7  
**गाला**  
 डेर 686.6  
 फाहा 174 19  
**गालिब**  
 जयी 912.15  
**गालिबन**  
 संभवत: 68.19  
**गाली**  
 गाली 433 3 ⇨  
 सीठना 800.51  
**गाली गलीज**  
 गाली गलीज 433.4 ⇨  
**गाली गलीज करना**  
 गाली गलीज करना 433.7 ⇨  
**गाली गीत**  
 गाली गीत 796.22 ⇨

## गालीचा

**गालीचा**  
**कालीन** 593.37  
**गाली देना**  
*गाली देना* 433.6 ⇨  
**गाली देने वाला**  
*गाली देने वाला* 433.9 ⇨  
**गाबकुशी**  
 गोहत्या 206.46  
**गाबखुर्द**  
 घृ मंतर. कर्म 474 15  
**गाबधष**  
 अत्याहारी 182 15  
**गाबफ़ोरी**  
 शक्ति 487 1  
 हाथापाई 905.23  
**गाब तकिया**  
*गाब तकिया* 593.65 ⇨  
**गाबदी**  
 मंदधी 302 8  
 धपाधी 302 9  
**गाबदुम**  
 दलानयुक्त 989 10  
**गाबदुम तकिया**  
 गाब तकिया 593 65  
**गाबन्नाणि**  
 संजय 771 93  
**गाह**  
 गहराई 984 1  
 गाध स्थल 984 6  
 जलराशि गहराई 984.2  
 पकड 868 3  
 स्थान 33 1  
**गाहक**  
 गुणज्ञ 305 34  
 ग्राहक 660 13  
**गाहकी**  
 ग्राहकता 660 12  
 विक्रय 661 1  
**गाहन**  
 बुबकी कर्म 1031 11  
**गाहना**  
 गहराई मापना 958 56  
 छानना 1009 17  
 बुबकी लगाना 1031 21  
 मंथन करना 554 21  
**गाहनी**  
*गाहनी* 548.20 ⇨  
**गाही**  
 पाँच: समुदाय 687 7  
**गाहे बगाहे**  
 कभी कभी 36.25  
**गिहू**  
*गिहू* 479.3 ⇨  
**गिहुरी**  
 ईदुरी 584 2  
**गिहूक**  
 गंद 479.9

**गिग (अँ)**  
 नीका सूची 1072.3  
 रक्षा नीका 1072.32  
**गिघपिच**  
 अय्यवस्थित समूह 690 4  
 कुलेख. उपमान सूची 412 13  
 जनाकीर्ण 616.29  
 जनाकीर्णता 616.11  
 फिसलाहट 10९4.14  
**गिजगिजा [गिजगिजी]**  
 गिलगिला [गिलगिली] 269.20  
**गिजा**  
 आहार पदार्थ 186.1  
**गिटकिरी**  
*गिटकिरी* 458.12 ⇨  
**गिटार**  
*गिटार* 461.26 ⇨  
**गिटार (अँ)**  
 गिटार 461 26  
**गिट्टक**  
 अक्षाय कील 1077 14  
 कीली 1016 15  
*गिट्टक* 458 13 ⇨  
**गिट्टी**  
 अक्षाय कील 1077 14  
 इंटोरा 938 34  
 ककड 938 35  
 कीली 1016 15  
*गिट्टी* 938 39 ⇨  
 पाषाण खड 938 33  
 मुद्भांडारा 77 6  
 रोड़ी 938 49  
**गिट्ट**  
 गिट्टी 938 39  
**गिङ्गिकाता [गिङ्गिकाती]**  
*गिङ्गिकाता [गिङ्गिकाती]* 350.21 ⇨  
**गिङ्गिकाना**  
*गिङ्गिकाना* 350 13 ⇨  
 दया याचना करना 834 10  
**गिङ्गिकाहट**  
*गिङ्गिकाहट* 350.8 ⇨  
**गिहा**  
 खोजिया 800.8  
**गिह**  
*गिह* 126.26 ⇨  
**गिह दृष्टि**  
 तीक्ष्ण दृष्टि 282 2  
**गिहाराज**  
 जटायु 770.27  
**गिनत**  
 गणना कर्म 850 11  
**गिनतारा**  
 अबाकस 950 14  
**गिनती**  
 उपस्थिति गणना 1021.4  
 कुल संख्या 949 2  
 गणना 950 1  
 महत्त्व 852 1

**गिनती करना**  
 गिनना 950 19  
**गिनती कर्म**  
 गणना कर्म 950 11  
**गिनती का**  
 अल्प 942 13  
**गिनती न होना**  
 नगण्य होना 853 6  
**गिनन**  
 गणना कर्म 950 11  
**गिनना**  
*गिनना* 950.19 ⇨  
**गिनेने वाला**  
 परिगणक 950 20  
**गिना [गिनी]**  
 गण्य 852.9  
*गिना [गिनी]* 950.12 ⇨  
**गिनाई**  
 गणना कर्म 950 11  
**गिना चुना [गिनी चुनी]**  
 गण्य 852 9  
**गिनी गोल्ड**  
*गिनी गोल्ड* 95 7 ⇨  
**गिनी गोल्ड (अँ)**  
 गिनी गोल्ड 95 7  
**गिने चुने**  
 अल्प 942 13  
**गिने बिना** †  
 असंख्यत 944 13  
**गिनी**  
 अशरफी 629 8  
**गिप्ट (अँ)**  
 उपहार 640.2  
**गिप्ट टेब्ल (अँ)**  
 उपहार कर 647 11  
**गिप्ट पैपिंग (अँ)**  
 उपहार वेष्टन 592.6  
**गियर केंस (अँ)**  
 गीयर बीक्स 1077.29  
**गियर बीक्स (अँ)**  
 गीयर बीक्स 1077 29  
**गिरंत**  
 विमान अवपात 1081 28  
**गिरगिट**  
*गिरगिट* 123.3 ⇨  
**गिरजा**  
 गिरजाघर 745.20  
**गिरजाघर**  
*गिरजाघर* 745.20 ⇨  
**गिरता [गिरती]**  
 अधोगामी 1031.28  
 अवनतिशील 535.6  
 अवरोह क्रमिक 991 23  
 निर्झरणीय 21.38  
 पतनशील 1031.25  
 हासशील 531.12  
**गिरते**  
 अवरोहत् 991 30

**गिरते पड़ते**  
 डगमगाते 1084 53  
 शिथिल गति से 1045 17  
**गिरदा**  
 परिधि 972 4  
 बाहरी घेरा 972 7  
 वृत्त (चक्र) 972.1  
**गिरदान**  
 गिरगिट 123 3  
**गिरदावर**  
 वृत्ताकार 972 15  
**गिरन**  
 अधोगमन 1031 5  
 अवनमन 1025 3  
 खिडन 1032 5  
 झडन 1032 7  
 दहन 539.3  
 पटकनी 486 19  
 पतन 1031 1  
 प्रलबन 1024 1  
 फिसलन 1084 15  
 विमान अवपात 1081 28  
**गिरना**  
 अवनति होना 535 4  
 अवनमित होना 1025 6  
 उत्साह भंग होना 492.8  
 काया शिथिल होना 159 8  
 खिडना 1032 19  
 झडना 1032 21  
 टपकना 1032 20  
 ठोकर लगना 1084 33  
 दहना 539 11  
 दुरचरित्र होना 811 4  
 धरा जाना 1019 9  
 धराशायी होना 1027 12  
 धार गिरना 1032 22  
 धैर्य भंग होना 395 18  
 निर्झरित होना 21 29  
 नीचे उतरना 1031.17  
 पतन होना 1031 15  
 फिसलना 1084 37  
 भरा जाना 1004.7  
 मूल्य कम होना 664 25  
 रोगग्रस्त होना 162.4  
 ह्रास होना 531 6  
**गिरना पड़ना**  
 मदोन्मत्त होना 211 10  
 लुढ़कना 1031 18  
 लोटपोट होना 384.12  
 शिथिल गमन करना 1045.9  
**गिरनार**  
*गिरनार* 17.3 ⇨  
 भारत उपमहाद्वीप: पर्वत सूची 17.1  
**गिर पड़ना**  
 दहना 539.11  
**गिरप्रस**  
 तलवार: मूठ 924 11  
 दबोच 868 6

पात्र बंधन 868.7  
मूठ 596 24  
**गिराप्रस्तार**  
बंदीकृत 868.34  
**गिराप्रस्तार करना**  
बंदी बनाना 868.29  
**गिराप्रस्तारी**  
बंदीकरण 868 1  
**गिराप्रस्तारी: आदेश**  
वारंट 868 2  
**गिरामिटिया**  
प्रवासी भ्रमिक 618 6  
**गिरवी**  
बंधक 633 18  
बंधकित 633 38  
**गिरवीकार**  
बधक कर्ता 633.39  
**गिरवीदार**  
बंधक कर्ता 633 39  
**गिरवीनामा**  
बधक पत्र 633 25  
**गिरव्ती**  
एकक परिवार 726 5  
गृहस्थी 235 2  
बीवी बच्चे 726 11  
**गिरह**  
कलाबाज़ी 1086 14  
गज़ल समापन शेरअर 452 31  
*गिरह* 959 12 ⇨  
ग्रंथि 572 1  
जेब 672.1  
टेट 672 6  
डब 672 7  
वैमनस्य 706 10  
**गिरह: 16**  
गज़ 959 11  
**गिरह: 3**  
बालिशर 959.14  
**गिरह: 8**  
हाथ 959.18  
**गिरहकट**  
जेबकट 864 14  
**गिरहकटी**  
जेबकटाई 864.13  
**गिरहदार**  
उलझा [उलझी] 573.20  
ग्रंथिल 573 19  
बलधित 975.29  
सर्पिल 974.19  
**गिरहबाज़**  
कलाबाज़ 1086.15  
**गिरा**  
ताल पद 458.30  
पटकनी खाया 486 26  
भाषा 421 1  
बाषा 299.1  
सरस्थती 775.8

**गिरा [गिरी]**  
अधोक्षिप्त 1052.24  
अधोगत 1031 27  
अपारित 329.28  
अवनत 535 5  
अवनमित 1025 8  
आधारित 1019.17  
खिडा [खिडी] 1032 31  
जाति निर्वासित 870 28  
दहा [दही] 539 17  
दुश्चरित्र 811 5  
धराशायी 1027.22  
निर्झरित 21 37  
पतित 1031 24  
बहुत थका 492 16  
मंदा [मदी] 664 33  
लुढ़का [लुढ़की] 1031 29  
हस्त 531 11  
**गिराई**  
अधोक्षेपण 1052 12  
अवपातन 1031 3  
**गिराऊ**  
दहनशील 539 18  
पतन कर्ता 1031 26  
**गिराना**  
कटीती करना 664 27  
जीतना 912 12  
नीचे खींचना 1062 29  
नीचे फेंकना 1052 18  
पटकना 1062 28  
पतित करना 103 16  
पारित न करना 329 17  
**गिराने वाला**  
अवनतिकारी 535 7  
पतन कर्ता 1031 26  
**गिरा पका [गिरी पकी]**  
क्षमताहीन 488 15  
निकूट 314 5  
बहुत थका 492 16  
रदीकृत 526.17  
लुढ़का [लुढ़की] 1031 29  
**गिरापति**  
ब्रह्मा 766 1  
**गिरापन**  
अनुक्षितिजता 1020.5  
**गिरा सकान**  
खंडहर 539 5  
**गिराया [गिराई]**  
पटका [पटकी] 1062 38  
**गिरावट**  
अधोगमन 1031.5  
अवनति 535 1  
पतन 1031.1  
पदावनति 653.13  
व्यापारिक मंदी 864 13  
शक्ति नाश 488.2  
ह्रास 531.3

**गिरि**  
पर्वत 16 3  
सात उपमान सूची 948 30  
**गिरि कंदरा**  
पर्वत गुहा 15 10  
**गिरिका**  
घुहिया 127 61  
छोटा पर्वत 16 5  
**गिरि कुहर**  
पर्वत गुहा 15 10  
**गिरिकूट**  
पर्वत शिखर 16 11  
**गिरिचर**  
पर्वत वासी 616 19  
**गिरिज**  
गेरू 290 21  
**गिरिजन**  
पर्वत वासी 616 19  
**गिरिजा**  
गंगा नदी 20 10  
पार्वती 776.9  
**गिरिजा पति**  
शिव 767 1  
**गिरिजाल**  
पर्वत भ्रंणी 16 9  
**गिरिधर**  
कृष्ण 771 1  
**गिरि धातु**  
गेरू 290.21  
**गिरिधारी**  
कृष्ण 771 1  
**गिरिध्वज**  
इंद्र वज्र 928 8  
**गिरिपति**  
हिमालय 17 7  
**गिरिपाद**  
तलहटी 16.13  
**गिरिपार्थ**  
पर्वत ढाल 16 12  
**गिरिपृष्ठ**  
पर्वत पृष्ठ 16 10  
**गिरिप्रस्थ**  
पठार 16.2  
**गिरिभिया**  
सुरागाय 127.49  
**गिरिभेदी**  
इंद्र 773 5  
**गिरिराज**  
ऊँचा पर्वत 16.4  
हिमालय 17.7  
**गिरिवर**  
ऊँचा पर्वत 16.4  
**गिरिवर्तिका**  
बतल 126.56  
**गिरि शिखर**  
पर्वत शिखर 16 11  
**गिरिचूग**  
पर्वत शिखर 16.11

**गिरिसार**  
मलयाचल 17 13  
रौंगा 94 13  
लोहा 93 7  
शिलाजीत 84 12  
**गिरिचुत**  
मेनाक 17 14  
**गिरिंद्र**  
ऊँचा पर्वत 16.4  
**गिरी**  
*गिरी* 191.14 ⇨  
गुठली बीजली 112 4  
नारियल. गिरी 112 6  
बीज. गिरी 112 2  
**गिरी पकी चाल**  
शिथिल गति 1045.7  
**गिरीषा**  
शिव 767.1  
हिमालय 17 7  
**गिरेवा**  
घकान 988 3  
रेंप 613 11  
**गिरो**  
बंधक वस्तु 633 26  
**गिरोकार**  
बधक कर्ता 633.39  
**गिरोह**  
रूबीला 729 11  
गुट 885 9  
दल 691 1  
**गिरोहबंद**  
गुटबंद 885 38  
**गिरोहबंदी**  
गुटबंदी 885 10  
**गिरोहबाज़**  
गुटबाज़ 885 39  
**गिर्द**  
निकट मे 31 9  
पड़ोस 31.3  
**गिर्दबाद**  
चक्रवात 85 10  
**गिर्दा**  
घेरा 604 7  
परिक्रमा मार्ग 1063 25  
परिधि अतर्गत स्थान 972.5  
**गिर्दबर**  
आवृत्तिशील 71.9  
परिक्रमणशील 1033.20  
**गिल**  
मिट्टी गारा 100.9  
**गिलकार**  
पलस्तर कर्मी 599 29  
**गिलकादी**  
पलस्तरण 599.28  
**गिलगिला [गिलगिली]**  
*गिलगिला [गिलगिली]* 269.20 ⇨  
मुलायन 197.39

## गिलगिलापन

### गिलगिलापन

गिलगिलापन 269.6 ⇨

### गिलट

गिलटकारी 292.6

### गिलटकारी

गिलटकारी 292.6 ⇨

### गिलटी

गिलटी 166.4 ⇨

### गिलन

गिलन 959.47

### गिलम

ऊनी कालीन 593.38

मोटा गद्दा 593.43

### गिलसिया

छोटा गिलास 684.10

### गिलहरी

गिलहरी 127.64 ⇨

### गिला

उपालम 843.13

शिकायत 843.12

### गिलाप्रत

प्रगाढ़ता 81.1

### गिलाफ

गिलाफ 593.66 ⇨

गिलाफ 675.5 ⇨

### गिलाफ (दे.)

गिलाफ 593.66

### गिलाव

मिट्टी गारा 100.9

### गिलावा

मिट्टी गारा 100.9

### गिला शिकवा

शिकायत 843.12

### गिलास

गिलास 684.9 ⇨

### गिलासी

छोटा गिलास 684.10

### गिलिम

ऊनी कालीन 593.38

### गिलींदा

महुआ 190.31

### गिलीरी

पान बीड़ा 213.18

### गिलीरीदान

पानदान 213.28

### गिल्डी

शरीर ग्रथि 132.8

### गिल्सी

गुल्ली 479.5

### गिल्सी डंडा

गुल्ली डंडा 476.6

### गिण्णु

साम गायक 741.13

### गीज़र (औं)

गरम जलस्रोत 21.6

### गीत

कठ संगीत 457.5

गायित 460.46

गीत 451.1 ⇨

गीत 451.19 ⇨

चीसठ कला सूची 397.4

स्तोत्र 741.16

### गीत [गीता]

गायित 460.46

### गीतः अंतरा

गीत. अंतरा 451.22 ⇨

### गीतः अंतिम भाग

गीत अंतिम भाग 451.25 ⇨

### गीतः अंतिम स्वर

न्यास स्वर 459.20

### गीतः आरंभिक भाग

गीत आरंभिक भाग 451.24 ⇨

### गीतः आरंभिक स्वर

ग्रह स्वर 459.19

### गीतक

पट समक्ष पूर्ववर्ग सूची 468.19

### गीतकार

गीतकार 448.18 ⇨

### गीत क्रम

आरोह अवरोह 458.1

स्वरलिपि 459.15

### गीत गाना

प्रशंसा करना 841.24

प्रशंसा गाना 841.25

### गीत नाट्य

ओपेरा 463.10

### गीतः पद

गीत पद 451.21 ⇨

### गीत प्रस्तुति

गायन 460.16

### गीतः बोल

गीत बोल 451.20 ⇨

### गीतमोदी

किन्नर 778.1

### गीत लय

संगीत तर्ज़ 458.14

### गीत लेखक

गीतकार 448.18

### गीत संगीत

संगीत 457.1

### गीत संगीत नाटक

ओपेरा 463.10

### गीत संगीत नृत्य

लास्य 462.9

### गीतसंगीतमय

संगीतमय 457.43

### गीतः त्थायी

गीत स्थायी 451.23 ⇨

### गीतांजली

काव्य संकलन 446.24

### गीता

गीत 451.19

गीता 740.14 ⇨

प्रस्थान त्रयी सूची 740.11

### गीता उपनिषद

हिंदू धर्मग्रंथ 740.9

### गीता कुरान

धर्म ग्रंथ 738.1

### गीताव्यक

संगीतमय 457.43

### गीतावली

काव्य संकलन 446.24

### गीति

गायन 460.16

गीत 451.19

### गीतिका

गीत 451.19

### गीतिमय

संगीतमय 457.43

### गीति रूपक

ओपेरा 463.10

### गीतोपदेशक

कृष्ण 771.1

### गीदङ्ग

कायुरुष 395.29

फिसलाहट 127.75 ⇨

### गीदङ्ग घुबकी

भबकी 373.13

### गीदङ्गः बोली

हुआँ हुआँ 298.30

### गीदङ्ग भबकी

भबकी 373.13

### गीदङ्गी

मादा गीदङ्ग 127.76

### गीघ

गिद्ध 126.26

### गीयर

गीयर 1077.28 ⇨

### गीयर (औं)

गीयर 1077.28

### गीयर दाँता

गरारी दाँता 1077.38

### गीयर बौक्स

गीयर बौक्स 1077.29 ⇨

### गीयर व्हील

गीयर व्हील 1077.30 ⇨

### गीयर व्हील (औं)

गीयर व्हील 1077.30

### -गीर (जैसे: राजगीर)

रचेता 527.14

व्यवसायी 650.24

### गीरध

बृहस्पति ग्रह 7.6

### गीर पहचिर्घी

गिरनार 17.3

### -गीरी (जैसे: जुलाहागीरी)

व्यवसाय 650.9

### गीर्ण

अभिव्यक्त 428.17

कथित 430.16

पूर्ण भक्षित 181.63

### गीर्णन

कथन 430.1

### गीर्षी

सरस्वती 775.8

### गीर्षिति

बृहस्पति 789.22

### गीर्षाण

देवता 772.1

### गीर्षी

पूर्ण भक्षक 181.54

### गीला [गीली]

अद्भुत्पूर्ण 387.7

आर्द्र 88.27

फिसलन युक्त 1084.47

रसेदार 201.26

सिंधित 548.55

स्वेदित 215.31

### गीला करना

आर्द्र करना 88.19

### गीलापन

आर्द्रता 88.16

फिसलाहट 1084.14

### गीला पिंड

लोदा 938.32

### गीली गरमी

नमीदार गरमी 53.9

### गीशा (जापान)

वेश्या 807.5

### गीष्पति

बृहस्पति 789.22

बृहस्पति ग्रह 7.6

### गुंघा

कली 115.5

### गुंज

गुच्छ 686.17

प्रतिध्वनि 294.4

शाखा. पुष्प समूह 115.8

### गुंजक

प्रतिध्वनिकारी 294.24

### गुंजन

गुजार 298.3

प्रतिध्वनन 294.5

### गुंजलक

उलझन 573.6

केरा गुच्छ 137.5

ग्रथि 572.1

शिकन 975.7

### गुंजा

तुला बीज 962.42

### गुंजाहर

अंतराल 33.9

गुंजाहर 33.8 ⇨

धारण क्षमता 966.4

विस्तीर्णता 981.1

### गुंजा: जङ्ग

मुलेटी 281.27

### गुंजान

आवासित 618.23

जनाकीर्ण 616.29

बनस्पतियुक्त 111.31

<b>गुजाना</b> घोर ध्वनि करना 294 17	<b>गुंभी लट</b> वेणी 223 17	<b>गुच्छा बनाना</b> गुच्छित करना 667.8	<b>गुजारा</b> आजीविका 650.1
<b>गुजार</b> गुजार 298.3 ⇨ वनस्पतियुक्त 111 31	<b>गुंभे केश</b> संयुत केश 223 5	<b>गुच्छार्ध</b> सोलह लकीं मोती माला 228.44	जीवन निर्वाह 625.2
<b>गुजार करना</b> आवासित करना 618 17	<b>गुंफ</b> जाल 572 16	<b>गुच्छित</b> गुच्छित 667 14 ⇨	परस्पर निर्वाह 702.3
<b>गुजारना</b> प्रतिध्वनि होना 294 16	<b>गुंफन</b> सूत्रबद्धन 573 3	<b>गुच्छित करना</b> गुच्छित करना 667.8 ⇨	<b>गुजारा होना</b> जीवन निर्वाह होना 625.6
<b>गुजित</b> प्रतिध्वनित 294 23	<b>गुंफा [गुंफी]</b> सूत्रबद्ध 573 17	<b>गुच्छी</b> कुकुरमुत्ता 189 13	<b>गुजारिशा</b> निवेदन 350.1
<b>गुजित होना</b> प्रतिध्वनि होना 294.16	<b>गुंफार्ह</b> सूत्रबद्धन 573 3	<b>गुच्छा</b> 686.17	प्रार्थना 350.4
<b>गुंठन</b> गोपन 824 1	<b>गुंफित</b> जालदार 572 20	<b>गुच्छी</b> 479 6 ⇨	<b>गुजारिशानामा</b> प्रार्थना पत्र 350.5
प्रच्छन्न 824 8	शिल्लीदार 990 33	<b>लच्छी</b> 575 7	<b>गुज्जा</b> बॉस कील 1016 13
<b>गुंठित</b> प्रच्छन्न 824 26	<b>गुंभज</b> कलश 745 43	<b>साग सब्जी सूची</b> 189 4	<b>गुज्जरोट</b> साड़ी: चुन्नट 975 2
<b>गुंढई</b> गुंढई 811 2 ⇨	<b>गुंभद</b> कलश 745 43	<b>गुजर</b> परस्पर निर्वाह 702.3	<b>गुज्जरोट</b> गुज्जरोट 134.10 ⇨
<b>गुंढली</b> ईडुरी 584 2	<b>गुंभद</b> 611 5	<b>सक्रमण</b> 1091 3	साड़ी चुन्नट 975.2
<b>गुंढा</b> गुंढा 811 7 ⇨	<b>गुंभद</b> कलश 745 43	<b>गुजरगाह</b> मार्ग 1063 1	<b>गुञ्जिया</b> गुञ्जिया 203 8 ⇨
<b>गुंढा [गुंढी]</b> गुंढा 811 7	<b>गुंभद</b> 611 5 ⇨	<b>सक्रमण स्थल</b> 1091.6	<b>गुञ्जीट</b> गुञ्जीट 134.10
<b>गुंढागर्द</b> गुंढा 811 7	<b>गुंभी</b> नव पल्लव 115 2	<b>गुजर जाना</b> अल्प काल तक रहना 38.5	साड़ी: चुन्नट 975 2
<b>गुंढागर्दी</b> गुंढई 811 2	<b>गुंआर</b> ग्वार 189 18	<b>मरना</b> 249.18	<b>गुट</b> गुट 885 9 ⇨
<b>गुंढापन</b> गुंढई 811.2	<b>गुंआरि</b> गोपी 771 32	<b>गुजरता [गुजरती]</b> सक्रमणशील 1091 15	<b>गुटकन</b> निगलन 181.24
<b>गुंढा लुच्चा [गुंढी लुच्ची]</b> गुंढा 811 7	<b>गुंइयीं</b> अरवी 189 5	<b>गुजरते</b> जाते जाते 1091 16	<b>गुटकना</b> पुरा खा जाना 181.34
<b>गुंढी</b> लच्छी 575 7	<b>पुरुष मित्र</b> 705 2	<b>गुजरते गुजरते</b> जाते जाते 1091 16	<b>गुटका</b> गाइड 427 7
<b>गुंथा [गुंथी]</b> मैंडा [मैंडी] 195 61	<b>स्त्री मित्र</b> 705.3	<b>गुजरना</b> अतीत होना 63.5	गोली 977 4
<b>मैंडा बुना</b> 576 30	<b>गुग्गल</b> गुग्गुल 274 18	<b>काल क्षेप होना</b> 36 15	पुस्तिका 446.4
<b>सूत्रबद्ध</b> 573 17	<b>गुग्गुल</b> गुग्गुल 274 18 ⇨	<b>घटित होना</b> 75.8	भाष्य 427.11
<b>गुंथार्ह</b> मैंडार्ह 195 14	<b>गुच्छी</b> कुकुरमुत्ता 189 13	<b>परस्पर निर्वाह होना</b> 703 8	मनका 228.48
<b>सूत्रबद्धन</b> 573 3	<b>गुच्छी</b> 479.6	<b>पार जाना</b> 1097 9	व्याख्या पुस्तक 446.31
<b>गुंथापन</b> सघन बुनायट 576 13	<b>गुच्छ</b> गुच्छा 686 17	<b>व्यतीत होना</b> 74 2	<b>गुट निरपेक्ष</b> अपक्षधर 887 9
<b>गुंथन</b> पिरोई 573.4	<b>झाड़</b> 111 16	<b>संक्रमण करना</b> 1091.7	<b>गुट निरपेक्षता</b> अपक्षधरता 887.1
<b>गुंथा [गुंथी]</b> मैंडा [मैंडी] 195 61	<b>पुष्प गुच्छ</b> 12 34	<b>गुजरनामा</b> पार गमन अनुमति 1097.2	<b>गुट निरपेक्ष होना</b> अपक्षधर होना 887 6
<b>सूत्रबद्ध</b> 573.17	<b>गुच्छक</b> गुच्छा 686 17	<b>गुजर बत्सर</b> जीवन निर्वाह 625.2	<b>गुटबंद</b> गुटबंद 885.38 ⇨
<b>गुंथार्ह</b> मैंडार्ह 195.14	<b>गुच्छन</b> गुच्छन 667.2 ⇨	<b>गुजरबान</b> सुगी मुरी 647.35	<b>गुटबंदी</b> गुटबंदी 885.10 ⇨
<b>सूत्रबद्धन</b> 573.3	<b>गुच्छन करना</b> गुच्छित करना 667 8	<b>तट कर संग्राहक</b> 647 36	<b>गुटबंदीबाज़</b> गुटबाज़ 885.39
<b>गुंथा: पिंड</b> लोई 195 15	<b>गुच्छा</b> केश गुच्छ 137 5	<b>गुजर होना</b> जीवन निर्वाह होना 625.6	<b>गुट बनाना</b> गुट बनाना 885.24 ⇨
<b>गुंथाबट</b> रघना विन्यास 527.8	<b>गुच्छा</b> 686 17 ⇨	<b>गुजरा [गुजरी]</b> घटित 75 11	<b>गुट बौधना</b> गुट बनाना 885.24
	<b>गुफका</b> 975 5	<b>भूतपूर्व</b> 65.3	<b>गुटबाज़</b> गुटबाज़ 885.39 ⇨
	<b>पुष्प गुच्छ</b> 12 34	<b>व्यतीत</b> 74 3	<b>गुटबाज़ी</b> गुटबंदी 885.10
	<b>कल गुच्छ</b> 686 18	<b>संक्रमित</b> 1091.14	<b>गुटरूँ गूँ</b> 298.13 ⇨
	<b>कुंदना</b> 569 2	<b>गुजरात</b> कृष्ण: राज्य 771 14	
	<b>लच्छा</b> 575.6	<b>गुजरात: राजधानी</b> गुजरात: राजधानी 28.24 ⇨	
	<b>शाखा. पुष्प समूह</b> 115.8	<b>गुजराती</b> भारत. राष्ट्रभाषा सूची 421 4	

## गुट संबद्ध

**गुट संबद्ध**  
 गुट सापेक्ष 885.40  
**गुट संलग्न**  
 गुट सापेक्ष 885.40  
**गुट सापेक्ष**  
 गुट सापेक्ष 885.40 ⇨  
 गुट सापेक्षता  
 गुट सापेक्षता 885.11 ⇨  
**गुटहीन**  
 अपक्षधर 887.9  
**गुटहीनता**  
 अपक्षधरता 887.1  
**गुटिका**  
 गोली 977.4  
 जादुई गोली 474.21  
 पुस्तिका 446.4  
**गुटिकास्त्र**  
 गुलेल 926.1  
**गुटी**  
 गोटी 479.1  
 गोली 977.4  
 प्रथिल कंद 111.11  
 बंदूक: गोली 927.9  
 बटी 938.45  
 रेशम: कोया 242.3  
**गुट्टा [गुट्टी]**  
 ठिगना 154.18  
**गुट्टी**  
 जादुई गोली 474.21  
**गुट्टल**  
 गुठली 112.3  
 चौकोर गठरी 674.3  
**गुट्टा**  
 गिट्ट 479.3  
**गुठला**  
 गुठली 112.3  
**गुठली**  
 अर्बुद 166.1  
 गिलटी 166.4  
 गुठली 112.3 ⇨  
**गुठली: गिरी**  
 गुठली: बीजली 112.4  
**गुठली: बीजली**  
 गुठली: बीजली 112.4 ⇨  
**गुठ**  
 गुठ 280.14 ⇨  
**गुठ**  
 गोला 977.3  
**गुठ ईशनिग**  
 गुठ ईशनिग 1060.16 ⇨  
**गुठ ईशनिग (अं)**  
 गुठ ईशनिग 1060.16  
**गुठक**  
 गोला 977.3  
**गुठ: ककड**  
 गुठ: ककड 882.5 ⇨  
**गुठगण**  
 बटेर 126.55

**गुठगुण**  
 गुठगुणहट 297.12  
**गुठगुणहट**  
 गुठगुणहट 297.12 ⇨  
**गुठगुणी**  
 हुक्रा 213.10  
**गुठ टेस्ट (अं)**  
 सुरधि 400.5  
**गुठ डालना**  
 मीठा करना 280.28  
**गुठधाना**  
 गुठधानी 203.7  
**गुठधानी**  
 गुठधानी 203.7 ⇨  
**गुठ नाइट**  
 गुठ नाइट 1060.17 ⇨  
**गुठ नाइट (अं)**  
 गुठ नाइट 1060.17  
**गुठ निर्माण: स्थान**  
 गुलीर 280.25  
**गुठ फ्राईडे**  
 गुठ फ्राईडे 57.59 ⇨  
**गुठ फ्राईडे (अं)**  
 गुठ फ्राईडे 57.59  
**गुठ: भेली**  
 गुठ: भेली 280.15 ⇨  
 भेली 977.14  
**गुठ: मद्य**  
 रस 209.14  
**गुठ मानिग**  
 गुठ मानिग 1060.15 ⇨  
**गुठ मानिग (अं)**  
 गुठ मानिग 1060.15  
**गुठ: लवङ्ग**  
 गुठधानी 203.7  
**गुठविल (अं)**  
 कीर्तिस्व 821.9  
**गुठहर**  
 जवा कुसुम 14.17  
**गुठहल**  
 जवा कुसुम 14.17  
**गुठा [गुठी]**  
 गुठा [गुठी] 548.59 ⇨  
**गुठाई**  
 गुठाई 548.30 ⇨  
**गुठाई करना**  
 गुठाई करना 548.44 ⇨  
**गुठाई निराई**  
 गुठाई निराई 548.29 ⇨  
**गुठाका**  
 आलस्य 490.5  
 निद्रा 266.1  
**गुठाकेश**  
 अर्जुन 771.36  
 आलस्यहीन 493.12  
 परिग्रही 493.9  
 शिव 767.1

**गुठालू**  
 चीकू 190.19  
**गुठिया**  
 गुठिया 480.7 ⇨  
**गुठी पक्का**  
 नव वर्ष सूची 42.19  
**गुठी मुठी**  
 चक्रिल 973.10  
**गुठुरु**  
 चूल टेक 609.17  
**गुठुवा**  
 गुठुडा 480.6  
**गुठुवा**  
 गुठुडा 480.6 ⇨  
 टोना टोटका सूची 759.3  
**गुठुकी**  
 गुठिया 480.7  
 घटना: गोल अस्थि 133.19  
 हुक्रा 213.10  
**गुठुकी बटना**  
 प्रतिष्ठा बटना 849.11  
**गुठुस (अं)**  
 सामान 666.3  
 सामान 1061.6  
**गुठुस कैरियर (अं)**  
 माल वाहक 1071.3  
**गुठुस ट्रेन (अं)**  
 मालगाड़ी 1071.16  
**गुण**  
 असामान्यता 312.1  
 आकार रूप 967.5  
 काव्य गुण 453.3  
 काव्य रस 455.1  
 खड 938.1  
 चापकर्ण 972.10  
 जलयान: रस्ती 1073.16  
 तार 569.24  
 तीन: उपमान सूची 948.22  
 धनुष प्रत्यंघा 926.15  
 धागा 569.7  
 परिभाषा 317.1  
 प्रकृति: तीन गुण 762.3  
 प्रभाव 511.1  
 लक्षण 317.5  
 सद्गुण 313.6  
**गुण अवगुण परीक्षा**  
 कला समीक्षा 398.3  
**गुणक**  
 गुणनांक 955.3  
**गुण कथन**  
 परिभाषण 317.2  
 प्रशंसन 841.4  
**गुणकार**  
 भीम 771.76  
**गुण क्रांति**  
 उत्परिवर्तन 534.6  
**गुणमान**  
 कीर्तन 749.30

प्रशंसन 841.4  
**गुणमान करना**  
 प्रशंसा गाना 841.25  
**गुण गाना**  
 प्रशंसा गाना 841.25  
**गुण गायक**  
 प्रशंसा गायक 841.11  
**गुणग्राम**  
 बहुगुणी 313.16  
**गुणग्राहक**  
 कला उपभोक्ता 399.2  
 कला प्रेमी 400.17  
 गुणज्ञ 305.34  
**गुणज्ञ**  
 कला प्रेमी 400.17  
 गुणज्ञ 305.34 ⇨  
**गुणज्ञता**  
 गुणज्ञता 305.15 ⇨  
**गुण त्रय**  
 प्रकृति तीन गुण 762.3  
**गुणन**  
 गुणन कर्म 955.1  
**गुणन अंक**  
 गुणनाक 955.3  
**गुणन कर्म**  
 गुणन कर्म 955.1 ⇨  
**गुणन फल**  
 गुणन फल 955.4 ⇨  
**गुणन सारणी**  
 पहाड़ा 955.5  
**गुणनांक**  
 गुणनांक 955.3 ⇨  
**गुणनिका**  
 पूर्वरंग 468.17  
 शून्य 948.13  
**गुण निधान**  
 बहुगुणी 313.16  
**गुणनिधि**  
 बहुगुणी 313.16  
**गुण परिवर्तन**  
 उत्परिवर्तन 534.6  
**गुण बखानना**  
 कीर्तन करना 749.46  
 प्रशंसा करना 841.24  
**गुणयुक्त**  
 गुणवत्तायुक्त 957.10  
 मानकयुक्त 957.7  
 लक्षणयुक्त 317.22  
**गुणयुक्तता**  
 उत्तमता 313.1  
**गुणयुक्त भगवान**  
 सगुण ईश्वर 764.11  
**गुणराशि**  
 बहुगुणी 313.16  
 शिव 767.1  
**गुणवंत [गुणवंती]**  
 सद्गुणी 313.15

- गुणवत्ता  
गुणवत्ता 957.6 ⇨  
गुणवत्ता निरूपण  
मानकीकरण 957.2  
गुणवत्ता मार्क  
गुणवत्ता मार्क 621.18 ⇨  
गुणवत्तायुक्त  
गुणवत्तायुक्त 957.10 ⇨  
गुणवत्ता स्तर  
मानदंड 957.5  
गुणवत्ताहीनता  
निकृष्टतमता 314.3  
गुणवान [गुणवती]  
सद्गुणी 313.15  
गुण वृद्ध  
मस्तूल 1073.11  
गुण वृद्धक  
नीका बंधन: खूँटा 1073.18  
गुणव्य  
क्रोमोसोम 130.2  
गुणशाली [गुणशालिनी]  
सद्गुणी 313.15  
गुण संपत्ति  
सद्गुण 313.6  
गुण सागर  
बहुगुणी 313.16  
इत्थ 764.24  
गुणसिंधु  
बहुगुणी 313.18  
गुण सूचना  
विशेषण 425.11  
गुणसूचीय  
आनुवंशिक 727.39  
गुणसूचीयता  
आनुवंशिकता 727.17  
गुणसोम  
क्रोमोसोम 130.2  
गुणहीन  
अपरिभाष्य 317.20  
त्रिगुणातीत 762.13  
दुर्गुणी 314.8  
निर्गुण ईश्वर 764.9  
गुणहीनता  
निकृष्टता 314.:  
गुणा  
गुणन कर्म 955.1  
गुणित 949.42  
गुणाकर  
बहुगुणी 313.16  
शिव 767.1  
गुणा करना  
गुणा करना 955.21 ⇨  
गुणाकच  
बहुगुणी 313.16  
गुणातीत  
अपरिभाष्य 317.20  
ईश्वर 764.1  
त्रिगुणातीत 762.13
- निर्गुण ईश्वर 764.9  
गुणातीतता  
अपरिभाष्यता 317.4  
गुणांचित  
गुणवत्तायुक्त 957.10  
गुणा फल  
गुणन फल 955.4  
गुणालय  
बहुगुणी 313.16  
गुणावकर्ष  
निकृष्टतमता 314.3  
गुणित  
गुणित 949.42 ⇨  
गुणित 955.23 ⇨  
गुणित अंक  
गुण्यांक 955.2  
गुणित संख्या  
गुणित संख्या 949.27 ⇨  
गुणी  
गुणवत्तायुक्त 957.10  
प्रतिभाशाली 301.27  
प्रवीण 303.22  
प्रशसनीय 841.30  
बुद्धिमान व्यक्ति 301.6  
योग्य 303.14  
सद्गुणी 313.15  
सर्वगुण संपन्न 313.17  
सिद्ध कलाकार 397.19  
गुणी जन  
कला उपभोक्ता 399.2  
विद्वत्समाज 319.4  
गुणीय  
लक्षणीय 317.21  
गुणोत्कृष्टता  
उत्तमतमता 313.3  
गुणोम  
क्रोमोसोम 130.2  
गुण्य अंक  
गुण्यांक 955.2  
गुण्यांक  
गुण्यांक 955.2 ⇨  
गुण  
वेणी 223.17  
गुण्यमगुण्या  
उलझा [उलझी] 573.20  
गुण्यमगुण्यी 905.19  
मुठभेड़ 915.2  
मुठभेड़ ग्रस्त 915.12  
गुण्यमगुण्यी  
गुण्यमगुण्यी 905.19 ⇨  
गुण्यी  
अवरोध 1047.8  
उलझन 573.6  
उलझी गौठ 573.7  
गुण्यी सुलझना  
सुलझना 574.9  
गुण्यीहीन  
सुलझा [सुलझी] 574.15
- गुण्यीहीनता  
सुलझापन 574.6  
गुण्य  
गुच्छा 686.17  
घामर 85.28  
गुण्यना  
उलझना 573.14  
गुद्ध करना 905.31  
गुया [गुण्यी]  
उलझा [उलझी] 573.20  
गुवकारा  
गुदगुदा [गुदगुदी] 269.21  
गुदगुदा [गुवगुदी]  
गहदार 593.67  
गुदगुदा [गुदगुदी] 269.21 ⇨  
मासयुक्त 132.18  
मांसल 154.33  
गुदगुदाना  
गुदगुदी करना 385.10  
छेड़छाड़ करना 385.12 ⇨  
गुदगुदाहट  
गुदगुदी 385.4  
गुवगुदी  
गुदगुदी 385.4 ⇨  
गुदगुदी (हे.)  
हास 384.1  
गुवगुदी करना  
गुदगुदी करना 385.10 ⇨  
गुवदिया  
गुदरी व्यापारी 576.22  
तंबू व्यवसायी 600.6  
गुवरी  
गुदरी 593.46 ⇨  
जीर्ण परिधान 583.4  
राबिसे टुकड़ें वाली रज़ाई 593.16  
गुदरी क्रमोम  
गुदरी व्यापारी 576.22  
गुदरी बाज़ार  
रदी बाज़ार 526.15  
गुदरी व्यापारी  
गुदरी व्यापारी 576.22 ⇨  
गुदना  
गुदाई कृति 406.31  
गुदांकुर  
गुदाई 186.2  
गुदा  
इंद्रिय सूची 268.2  
गुदा 152.7 ⇨  
गुदा: 1  
शरीर: नौ रंग सूची 138.3  
गुदाई  
गुदाई 406.29 ⇨  
गुदाई कृति 406.31  
गुदाई करना  
गुदाई करना 406.39 ⇨  
गुदाई कर्मी  
गुदाई कर्मी 406.30 ⇨
- गुदाई कृति  
गुदाई कृति 406.31 ⇨  
गुदाज्ञ  
गुदगुदा [गुदगुदी] 269.21  
मांसल 154.33  
गुदाज्ञ (जैसे: दित्तगुदाज्ञ)  
द्रावक 80.7  
गुदार  
गुदगुदा [गुदगुदी] 269.21  
गुदाईद  
गुदाईद 166.2 ⇨  
गुवेंद्रिय  
कर्मेंद्रिय सूची 268.8  
गुदी  
गुदी 145.4 ⇨  
गुन  
तार 569.24  
गुनगाहक  
कला प्रेमी 400.17  
गुनगुन  
गुजार 298.3  
गुनगुनाहट 460.21  
गुनगुना [गुनगुनी]  
अल्प उष्ण 104.21  
गुनगुनाना  
गाना 460.43  
गुनगुनाहट  
गुनगुनाहट 460.21 ⇨  
गुनगीरी  
पतिव्रता 805.6  
गुनन  
ध्यानन 331.2  
गुनना  
ध्यान करना 331.8  
रटना 356.14  
विचार करना 330.13  
विमर्श करना 330.16  
गुनहगार  
अपराधी 861.14  
गुना [गुनी]  
गुणित 949.42  
गुणित 955.23  
गुनाह  
अपराध 861.1  
पाप 812.1  
गुनिया  
गोनिया 559.14  
विचारक 330.6  
गुनी  
भूत निवारण कर्ता 759.9  
सद्गुणी 313.15  
गुपबुप  
कानाफूसी 435.4  
गुप्तत: 824.29  
गुलाब जामन 203.34  
ध्वनिहीनत: 295.6  
गुप्त  
आकदार 805.16

## गुप्त अर्थ

कूट 823.12  
गुप्त 824.20 ⇨  
दुर्बोध 519.23  
रहस्यपूर्ण 823.13  
विलुप्त 824.24  
वैश्य 731.24  
गुप्त अर्थ  
गुप्त अर्थ 426.9 ⇨  
गुप्त आयुध  
गुप्त आयुध 922.7 ⇨  
गुप्त करना  
गोपन करना 824.14  
गुप्त कार्य  
गुप्त कार्य 824.5 ⇨  
गुप्तार  
गुप्तार 866.12 ⇨  
दुर्मुख 770.39  
गुप्तार कर्म  
गुप्तारि 866.10  
गुप्तार नियुक्ति  
गुप्तार नियुक्ति 866.11 ⇨  
गुप्तार नियोजक  
गुप्तार नियोजक 866.13 ⇨  
गुप्तार प्रेषक  
गुप्तार नियोजक 866.13  
गुप्तार प्रेषण  
गुप्तार नियुक्ति 866.11  
गुप्तार विभाग  
गुप्तार्या विभाग 866.14  
गुप्तारि  
गुप्तारि 866.10 ⇨  
गुप्तारि करना  
गुप्तारि करना 866.20 ⇨  
गुप्तार्या  
गुप्तारि 866.10  
गुप्तार्या करना  
गुप्तारि करना 866.20  
गुप्तार्या: प्राप्त सूचना  
गुप्त सूचना 866.17  
गुप्तार्या विभाग  
गुप्तार्या विभाग 866.14 ⇨  
गुप्ततः  
गुप्ततः 824.29 ⇨  
गुप्ततः करना  
गुप्ततः करना 824.15 ⇨  
गुप्त तथ्य  
रहस्य 823.7  
गुप्तता  
गुप्तता 824.2 ⇨  
गुप्त ताला  
घोर ताला 609.25  
गुप्त द्वार  
गुप्त द्वार 608.2 ⇨  
गुप्त परामर्श  
गुप्त परामर्श 332.4 ⇨  
गुप्त प्रतीक्षा  
घात प्रतीक्षा 914.1

गुप्त प्रवेश  
घुसपैठ 1094.15  
गुप्त प्रेम विवाह  
गांधर्व विवाह 799.23  
गुप्त भाषा  
कूट भाषा 823.3  
गुप्त मंत्र  
गुरुमंत्र 742.10  
गुप्त मंत्रणा  
गुप्त परामर्श 332.4  
गुप्त मार्ग  
गुप्त मार्ग 1065.2 ⇨  
गुप्त रचना  
रहस्य न खोलना 823.10  
गुप्त वार्ता  
गुप्त सूचना 866.17  
गुप्त वार्तालाप  
गुप्त वार्तालाप 435.3 ⇨  
गुप्तवास  
भूमिगतता 824.6  
गुप्तवास करना  
भूमिगत होना 824.16  
गुप्तवासी  
भूमिगत 824.23  
गुप्त विवाह  
गुप्त विवाह 799.17 ⇨  
गुप्त वेश  
छद्म वेश 589.16  
गुप्त शस्त्र  
गुप्त आयुध 922.7  
गुप्त शैलक  
घोर खाना 671.21  
गुप्त संकेत  
कूट संकेत 823.5  
गुप्त संबंध  
विवाह अनिष्टा 806.1  
सौठगाँठ 827.9  
गुप्त समाचार  
गुप्त समाचार 440.4 ⇨  
गुप्त सूचना  
गुप्त समाचार 440.4  
गुप्त सूचना 866.17 ⇨  
गुप्त स्थान  
अभिसार स्थल 237.2  
गुप्त होना  
गुप्त होना 824.13 ⇨  
भूमिगत होना 824.16  
गुप्तांग  
गुप्तांग 152.1 ⇨  
जननैद्रिय 152.9  
गुप्ता  
गोपयिता 824.22  
भंडार अध्यक्ष 670.6  
रखेली 806.7  
संरक्षक 908.26  
गुप्तास्त्र  
गुप्त आयुध 922.7  
गुप्ती 922.8

गुप्ति  
गुहा 15.9  
गुप्ती  
गुप्ती 922.8 ⇨  
गुप्ता  
गुहा 15.9  
पुलः नीचे मार्ग 1065.14  
मौद 603.9  
सुरंग 1065.1  
स्मारक. प्रकार सूची 77.13  
गुप्ता चित्र  
गुहा चित्र 404.6  
गुप्ता  
कथन 430.1  
गुप्तागु  
परिचर्चा 436.3  
भेटवार्ता 436.5  
वार्तालाप 435.1  
गुप्ताार  
वार्तालाप 435.1  
गुप्ता  
केश गुच्छ 137.5  
गुच्छा 686.17  
गुप्ता 975.5 ⇨  
कुंदना 569.2  
गुप्तादार  
गुप्तादार 975.27 ⇨  
गुप्ताला  
कीट सूची 122.12  
गुप्ताला 122.18 ⇨  
गुप्ताार  
आवेश 371.1  
क्रोधोन्माद 354.5  
चक्रवात 85.10  
तीव्रोन्माद 354.8  
धूलि 100.4  
धूलि पुंज 100.6  
वैमनस्य 706.10  
संघित आवेश 371.3  
गुप्ताार  
गुप्ताार 480.8  
गुप्ताार  
गुप्ताार 480.8 ⇨  
गुप्ताार यान 1074.5  
गुप्ताार गैस  
हीलियम 86.11  
गुप्ताार यान  
गुप्ताार यान 1074.5 ⇨  
गुप्ताार होना  
फूलना 988.8  
गुप्ताारबाज  
बैलुनिस्ट 1081.39  
गुप्त  
अख्यात 848.5  
पलायित 918.19  
विलब्ध 863.7  
गुप्ताटा  
गुप्ता 186.5

गुप्ताटी  
कंपास घर 1073.25  
गुप्ताटी 602.5 ⇨  
छोटा गुब्बद 611.6  
गुप्ताटा  
नमदा 593.54  
गुप्ताना  
खो जाना 863.4  
गुप्तानाम  
अख्यात 848.5  
अप्रतिष्ठित 850.5  
छद्म नाम 315.6  
नामहीन 315.14  
गुप्तानामी  
अख्याति 848.2  
भूमिगतता 824.6  
गुप्ताारह  
दुरचरित्र 811.5  
धर्मघ्युत 742.32  
मार्गघ्युत 1099.8  
गुप्ताारही  
दुरचरित्रता 811.1  
मार्गघ्युति 1099.2  
गुप्ताारुदा  
मार्गघ्युत 1099.8  
विलब्ध 863.7  
गुप्ताारुम  
तल्लीन 331.14  
निरुत्तर 335.10  
मीन 429.22  
मीनतः 429.29  
गुप्ताार  
अंदाज़ा 947.1  
अभिमान 858.1  
धारणा 343.7  
संदेह 341.3  
गुप्ताारस्ता  
कर्मचारी 652.27  
दलाल 659.2  
प्रतिनिधि 888.26  
गुप्ताारुटी दाना  
सागुदाना 192.19  
गुप्ताारुट  
गुब्बद 611.5  
गुप्ताारु  
ईट 599.31  
गुप्ताारु  
गुप्ताारु 517.4 ⇨  
गुप्ताारुगा  
घाटुकार 841.35  
सेवक 651.25  
गुप्ताारुगाबी  
गुप्ताारुगाबी 588.21 ⇨  
गुप्ताारुग्रंथ  
गुरुग्रंथ 740.7  
गुप्ताारुदा  
वृक्क 148.8  
साहस 394.1



- गुरद्वारा**  
सिख गुरद्वारा 745 28
- गुरपर्व**  
गुरपर्व 57.40 ⇨
- गुरबत**  
आवासहीनता 617 1  
प्रवासन 618 4  
यात्रा 1087 1
- गुरबानी**  
गुरग्रथ 740 7
- गुरसी**  
मकोय 190 30
- गुरहना**  
सोहन चिड़िया 126 75
- गुराइन**  
सोहन चिड़िया 126 75
- गुराउ**  
तोप गाड़ी 1070 18
- गुराब**  
तोप गाड़ी 1070 18
- गुरिंदा**  
गुप्तघर 866 12
- गुरिया**  
मनका 228 48  
मांसयुक्त हड्डी (बोटी) 206.27
- गुरिल्ला**  
गोरिल्ला 127 92
- गुरिल्ला युद्ध**  
गुरिल्ला युद्ध 905 10 ⇨
- गुरु**  
अति अनुभवी 303 18  
अदम्य 519 28  
अध्यापक 323.8  
कुटिल 818 7  
कुशल गायक 460.18  
गंभीर स्वरीय 299.24  
गुरु 323.1 ⇨  
ताल मात्रा प्रकार सूची 458.35  
दीर्घ मात्रा युक्त 410.23  
द्रोणाचार्य 771.63  
धर्म दीक्षक 742 26  
धर्म शिक्षक 742.21  
नवग्रह सूची 261 14  
पिता 717.4  
प्रवीण 303.22  
प्रवीण व्यक्ति 303.9  
बृहत् 979 15  
बृहस्पति 789.22  
भारयुक्त 963 11  
मारी 963.13  
मंत्र निर्देशक 468.11  
महत् तत्त्व 764.31  
महान 839.8  
महा विद्वान 319.3  
राग गायक 400.38  
विद्वान व्यक्ति 319.2  
विशेषज्ञ 305.36  
शिव 767.1
- संगीत निर्देशक 460.3  
सिख गुरु 794 1  
सिद्ध कलाकार 397.19
- गुरु (दे.)**  
बोध प्रदाता 301 30
- गुरुआइन**  
गुरु पत्नी 323 3
- गुरुआई**  
गुरु भाव 323 2
- गुरुआनी**  
अध्यापिका 323 9  
गुरु. पत्नी 323 3
- गुरुकुल**  
गुरुकुल 321 16 ⇨  
छात्रावास 321 17  
विद्यारम्भ संस्कार 798 23  
शिक्षालय 321 9  
हिंदू धार्मिक पाठशाला 742 4
- गुरुकुल प्रदेश**  
शिक्षा आरम्भ सूची 321 3
- गुरुकुल वासी**  
गुरुकुल वासी 616 17 ⇨
- गुरुकुल से घर वापसी**  
विद्यात संस्कार 798 24
- गुरु: गुरु**  
गुरु: गुरु 323 4 ⇨
- गुरुग्रंथ**  
गुरुग्रंथ 740 7 ⇨
- गुरुग्रंथ साहिब**  
गुरुग्रंथ 740 7
- गुरु घंटाल**  
अति कुटिल 818 8  
दौबबाज़ 819 19
- गुरुजन समष्टि**  
गुरुजन समष्टि 722 1 ⇨
- गुरु जन्म दिवस**  
गुरुपर्व 57.40
- गुरु ज्ञान**  
गुरुमंत्र 742 10
- गुरुताम**  
विष्णु 768 1
- गुरुतर प्रतिप्रहार**  
गुरुतर प्रतिप्रहार 918.5 ⇨
- गुरुता**  
प्रधानता 852.3  
बृहत्ता 979.1  
भारयुक्तता 963 2
- गुरुत्व**  
भारयुक्तता 963.2  
मारीपन 963.4
- गुरुत्व क्षेत्र से बाहर प्रक्षेपण**  
अभिक्षेपण 1052.3
- गुरुत्वाकर्षण भाष**  
भार 963.1  
भार भाष 962.1
- गुरुत्वाकर्षण शक्ति**  
गुरुत्वीय बल 1050.4
- गुरुत्वाकर्षण हीन**  
भारहीन 963 12
- गुरुत्वाकर्षण हीनता**  
भारहीनता 963.3
- गुरुत्वीय बल**  
गुरुत्वीय बल 1050.4 ⇨
- गुरु दक्षिणा**  
गुरु दक्षिणा 665.6 ⇨  
दीक्षात समारोह सूची 321 8
- गुरु दक्षिणा संस्कार**  
विद्यांत संस्कार 798 24
- गुरु दीक्षा**  
गुरुमंत्र 742 10
- गुरुदीक्षा**  
समापन समारोह सूची 522 8
- गुरु द्रोण**  
द्रोणाचार्य 771 63
- गुरुद्वारा**  
सिख गुरद्वारा 745 28
- गुरुद्वारा: दीवान**  
खालसा दीवान 745 29
- गुरु: पत्नी**  
गुरु पत्नी 323 3 ⇨
- गुरुपन**  
गुरु भाव 323 2
- गुरु परंपरा**  
गुरु शिष्य परंपरा 323 7
- गुरु पुण्य दिवस**  
गुरुपर्व 57.40
- गुरुभाई**  
गुरुभाई 323 28 ⇨  
महपाठी 323 27
- गुरु भाव**  
गुरु भाव 323.2 ⇨
- गुरुमंतर**  
गुरुमंत्र 742.10
- गुरुमंत्र**  
गुरु 517.4  
गुरुमंत्र 742.10 ⇨  
निदेश 347.2
- गुरुमंत्र दाता**  
धर्म दीक्षक 742.26
- गुरुमंत्र दान**  
धर्म दीक्षा 742.9
- गुरुमंत्र देना**  
धर्म दीक्षा देना 742 19
- गुरुमह**  
• गुरु. गुरु 323 4
- गुरु मात्रा**  
गुरु मात्रा 452.40 ⇨
- गुरुमुख**  
दीक्षित 321 38
- गुरुबाव**  
पुरोहितवाद 760.19
- गुरुवार**  
बृहस्पतिवार 46.7
- गुरु शिष्य परंपरा**  
गुरु शिष्य परंपरा 323.7 ⇨
- गुरु शुल्क**  
गुरु दक्षिणा 665.6
- गुरु सांदीपनि**  
सांदीपनि 771 97
- गुरु साहब**  
सिख गुरु 794.1
- गुरुहीन**  
स्वशिक्षित 321 48
- गुरुब**  
अस्तगत 5 30  
अस्तगमन 5 10
- गुरुवर**  
अभिमान 858 1  
दर्प 858 5
- गुरुज**  
गदा 923 4
- गुरुज देश**  
गुजरात 28 23
- गुरुज प्रदेश**  
गुजरात 28 23
- गुरा**  
ईद का चॉद 57 47
- गुराना**  
गुराना 373 19 ⇨
- गुरीहट**  
गुरीहट 298.18 ⇨  
गुरीहट 373 5 ⇨
- गुरिणी**  
गुरु पत्नी 323 3
- गुरी [गुरिणी]**  
अभिमान 858 10
- गुल**  
अगारा 106 12  
कड़ाई काम 577 14  
कनपटी 140 14  
कपोल गड्ढा 140 16  
कोयला 110.6  
गुल 106.14 ⇨  
गुलाब 14 13  
पुष्प 115 6  
बूटा 578.15
- गुलअंदाज**  
पुष्पदेही 159 11
- गुल अशरफ़ी**  
गुल मोहर 14 12
- गुलकंद**  
गुलकंद 201 11 ⇨
- गुलकट**  
छीपी टप्पा 414.13
- गुलकार**  
कड़ाई कर्मी 577.13
- गुलकारी**  
कड़ाई कर्म 577.12  
कड़ाई काम 577 14  
गुलकारी 577.15 ⇨
- गुलखन**  
तंदूर 109.7

## गुलाखन

- गुलखन**  
यज्ञ वेदी 753.24
- गुलखिलाना**  
कठिन कार्य करना 487.17  
घमत्कार करना 379.7
- गुलगपाका**  
उत्सवपूर्णाता 56.2
- गुल गपाका**  
कोलाहल 294.8
- गुलगवत्त**  
उपवन वायु सेवन 1085.5
- गुलगुला**  
पुआ 203.20
- गुलगुला [गुलगुली]**  
गुदगुदा [गुदगुदी] 269.21  
पिलपिला [पिलपिली] 154.32  
मासल 154.33
- गुलगुली**  
गुदगुदी 385.4
- गुलगोधनी [गुलगोधनी]**  
ठिंगा मोटा [ठिंगनी मोटी] 154.21
- गुल चौबनी**  
उपवन पुष्प सूची 14.2
- गुलधी**  
उपवन कर्मा 12.28  
पुष्प घयन कर्ता 12.32
- गुलधीनी**  
पुष्प घयन 12.31
- गुलछर्च**  
विलास 363.6
- गुलछर्च उक्काना**  
विलास करना 363.12
- गुल ज़ाफ़री**  
हार सिंगार 13.27
- गुलज़ार**  
आवासित 618.23  
उपवन 12.11  
पुष्प उपवन 12.12
- गुलज़ार करना**  
आवासित करना 618.17
- गुलझट**  
उलझन 573.6
- गुलझट पकना**  
उलझना 573.14
- गुलझटी**  
उलझा [उलझी] 573.20  
उलझी गोंठ 573.7
- गुलझड़ी**  
उलझी गोंठ 573.7
- गुलतराश**  
उत्कीर्ण कर्ता 406.20
- गुलता**  
गुलेल. गोली 926.4
- गुलदस्ता**  
गुलदान 12.35  
सुविध संग्रह 669.6
- गुल बाऊदी**  
उपवन पुष्प सूची 14.2

- गुल दाऊदी 14.10 ⇨*
- गुलदान**  
गुलदान 12.35 ⇨
- गुलदाना**  
गुलदाना 203.9 ⇨  
नुकती सूची 203.17
- गुलदार**  
पुष्पयुक्त 115.17
- गुल बाबरी**  
गुल दाऊदी 14.10
- गुल नरगिस**  
नरगिस 14.19
- गुलनार**  
गहरा लाल 289.61
- गुलफ़ाम**  
पुष्पदेही 159.11  
हलका लाल 289.62
- गुल बकावली**  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
*गुल बकावली 14.11 ⇨*
- गुलबूटा**  
ककाई काम 577.14  
बेलबूटा 578.13
- गुलमा**  
सासेज 206.39
- गुल मेख**  
बतारासा कील 1016.11
- गुल मोहर**  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
*गुल मोहर 14.12 ⇨*  
नगर वृक्ष सूची 13.2
- गुल यासमीन**  
घमेली 14.16
- गुलरंग**  
हलका लाल 289.62
- गुल बर्द**  
गुलाब 14.13
- गुल शकर**  
गुलकंद 201.11
- गुल शकरी**  
गुलकंद 201.11
- गुलशन**  
उपवन 12.11
- गुल शबो**  
रात की रानी 14.23
- गुलसित्ती**  
पुष्प उपवन 12.12
- गुल हजारा**  
गेंदा 14.14
- गुलीट**  
कलाबाजी 1086.14
- गुलीट नारना**  
कलाबाजी खाना 1086.19
- गुलाब**  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
*गुलाब 14.13 ⇨*
- गुलाब: अरुं**  
*गुलाब: अरुं 84.14 ⇨*

- गुलाब जल**  
गुलाब: अरुं 84.14
- गुलाब जामन**  
*गुलाब जामन 203.34 ⇨*
- गुलाब जामुन**  
गुलाब जामन 203.34
- गुलाबी**  
अल्प उष्ण 104.21  
मद 211.1  
मादक 211.12  
युवा 231.12  
वसत कालीन 52.3  
हलका लाल 289.62
- गुलाबी जाफ़ा**  
सुहानी सर्दी 53.3
- गुलाबी धूप**  
शरद धूप 287.9
- गुलाबी शंख**  
वामावर्त शंख 461.80
- गुलाबी सौमय्य**  
माणिक 96.22
- गुलाम**  
दास 651.8  
नगण्य व्यक्ति 853.4  
पराधीन 901.8
- गुलाम गर्दिय**  
परदा दीवार 607.5  
महल बरामदा 615.7
- गुलामी**  
दासता 651.7  
पराधीनता 901.1
- गुलाल**  
होली रंग 57.34
- गुलिस्तौ**  
पुष्प उपवन 12.12
- गुलुकंद**  
पान मसाला सूची 213.20
- गुलू**  
ग्रीवा 145.1
- गुलूबंद**  
*गुलूबंद 585.5 ⇨*
- गुलूला**  
गुलेल 926.1
- गुलूला**  
बंदूक गोली 927.9
- गुलेल**  
*गुलेल 926.1 ⇨*
- गुलेल: गद्दी**  
*गुलेल: गद्दी 926.2 ⇨*
- गुलेल: गोली**  
*गुलेल: गोली 926.4 ⇨*
- गुलेलन**  
गुलेल प्रक्षेपण 1052.4
- गुलेल प्रक्षेपण**  
*गुलेल प्रक्षेपण 1052.4 ⇨*
- गुलेल: क्रीता**  
*गुलेल: क्रीता 926.3 ⇨*

- गुलेला**  
गुलेल. गोली 926.4
- गुलेला 977.2 ⇨*
- गुलेलारोहण**  
*गुलेलारोहण 1081.19 ⇨*
- गुलेली**  
गुलेला 977.2
- गुलैवा**  
महुआ 190.31
- गुलीर**  
*गुलीर 280.25 ⇨*
- गुलीरा**  
गुलीर 280.25
- गुल्बी**  
शरीर ग्रंथि 132.8
- गुल्क**  
टखना 149.17  
टोंग 149.15
- गुल्म**  
अर्बुद 166.1  
कोर 932.22  
गुच्छा 688.17  
*गुल्म 111.15 ⇨*  
झाड़ 111.16  
झाड़ी 12.20  
नदी तट कर चौकी 647.21  
पुष्प गुच्छ 12.34  
वृक्ष कुंज 12.18
- गुल्मक**  
*गुल्मक 630.5 ⇨*
- गुल्ना**  
गुलेल. गोली 926.4  
बीज समूह 112.9
- गुल्सी**  
गुठली 112.3  
*गुल्सी 479.5 ⇨*  
*गुल्सी 597.4 ⇨*  
गोटी 479.1  
धातु पिंड सूची 976.12  
बीज समूह 112.9  
बीज 674.9  
बुट्टा 116.4
- गुल्सी उंडा**  
*गुल्सी उंडा 476.6 ⇨*
- गुलाक**  
सुपारी 213.22
- गुलल**  
स्नान 221.9
- गुल्लाई**  
गोस्थानी 554.4
- गुल्लाक**  
डीठ 880.26  
धूट 734.20
- गुल्लाकाना**  
धूटतापूर्ण 734.21
- गुल्लाफ़ी**  
डिठाई 880.9  
धूटता 734.8

**गुल्फ़ाना**  
स्नानागार 221.17  
**गुल्फ़ा**  
क़ुद 373.28  
क्रोध 373.1  
**गुल्फ़ेतल**  
क्रोध 373.29  
**गुह**  
गुहराज 770.26  
घोड़ा 127.35  
स्कंद 773.50  
**गुहराज**  
गुहराज 770.26 ⇨  
**गुहा**  
गुहा 15.9 ⇨  
ब्रह्म 764.24  
**गुहा चित्र**  
गुहा चित्र 404.6 ⇨  
**गुहा मानव**  
गुहा मानव 128.5 ⇨  
**गुहार**  
आवाहन 1055.1  
फ़रियाद 350.9  
**गुहार करना**  
फ़रियाद करना 350.14  
**गुहारना**  
फ़रियाद करना 350.14  
**गुहारी**  
फ़रियादी 350.22  
**गुहावासी**  
गुहावासी 616.20 ⇨  
**गुहेर**  
अभिपिता 720.12  
**गुहेरी**  
अंजनहारी 167.6  
**गुह्य**  
कूट 823.12  
गुप्त 824.20  
गुप्तांग 152.1  
गुहावासी 616.20  
गुह्य विद्या विषयक 758.38  
दुर्बोध्य 519.23  
रहस्य 823.7  
विष्णु 768.1  
**गुह्यक**  
गुह्यक 778.11 ⇨  
देव योनि सूची 772.37  
**गुह्यकेश्वर**  
कुबेर 779.4  
**गुह्य गुरु**  
शिव 767.1  
**गुह्यता**  
गोपनीयता 824.3  
**गुह्य द्वार**  
गुदा 152.7  
**गुह्यगुह्य**  
पीपल 13.14

**गुह्य विद्या**  
गुह्य विद्या 758.1 ⇨  
**गुह्य विद्या विषयक**  
गुह्य विद्या विषयक 758.38 ⇨  
**गूगा [गूगी]**  
गूगा [गूगी] 164.5 ⇨  
वाचाहीन 429.25  
**गूगा [गूगी] (दे.)**  
गौन 429.22  
**गूगा करना**  
वाचा रोधन करना 429.18  
**गूगापन**  
गूगापन 164.1 ⇨  
गौन भाव 429.3  
वाचारुढ़ता 429.8  
वाचाहीनता 429.5  
**गूगा बहरा [गूगी बहरी]**  
गूगा बहरा [गूगी बहरी] 164.6 ⇨  
**गूज**  
प्रतिध्वनि 294.4  
लटटू कीली 480.16  
**गूजवार**  
प्रतिध्वनित 294.23  
**गूजना**  
घोर ध्वनि करना 294.17  
प्रतिध्वनि होना 294.16  
**गूजा [गूजी]**  
प्रतिध्वनित 294.23  
**गूध**  
रचना विन्यास 527.8  
**गूधन**  
मैकाई 195.14  
**गूधना**  
मौड़ना 195.46  
संग्रथित करना 573.10  
सघन बनना 578.26  
सूत्रबद्ध करना 573.12  
**गूध**  
मैकाई 195.14  
रचना विन्यास 527.8  
**गूधन**  
मैकाई 195.14  
**गूधना**  
मौड़ना 195.46  
संग्रथित करना 573.10  
सूत्रबद्ध करना 573.12  
**गू**  
विष्ठा 216.2  
**गूजरी**  
गोपी 771.32  
राग रागिनी सूची 457.24  
**गूह**  
एकांत स्थान 697.4  
कूट 823.12  
गुप्त 824.20  
दुर्बोध्य 519.23  
नर्मत्थ 999.14  
रहस्यपूर्ण 823.13

समस्यात्मक 333.25  
**गूह अर्थ**  
व्यजनार्थ 426.6  
**गूह अर्थ**  
सूक्ष्म अर्थ 426.10  
**गूहचर**  
गुप्तचर 866.12  
**गूहता**  
सूक्ष्मता 426.42  
**गूहता**  
कूटता 823.2  
**गूह पथ**  
गुप्त मार्ग 1085.2  
**गूह पहली**  
अनबुझ पहली 333.14  
**गूह प्रश्न**  
पहली 333.13  
**गूह शब्द**  
व्याहृति 741.17  
**गूडांग**  
कछुआ 123.2  
गुप्तांग 152.1  
जननेद्रिय 152.9  
**गूडोक्ति**  
रहस्योक्ति 823.6  
**गूण**  
जलयान रस्सी 1073.16  
**गूध**  
विष्ठा 216.2  
**गूध**  
ब्रण अंकुर 167.13  
**गूधक**  
चीथड़ा 938.16  
जीर्ण परिधान 583.4  
थेगलीदार परिधान 583.5  
**गूदा**  
गुठली. बीजली 112.4  
फल: गुदा 191.13  
मांस 132.1  
**गूदेवार**  
मांसल 154.33  
**गूदेवार जड़**  
कंद 111.10  
**गून**  
जलयान. रस्सी 1073.16  
**गून पथ**  
गून पथ 1086.10 ⇨  
**गूनधे (डी)**  
गून पथ 1086.10  
**गूमक**  
गूमक 166.5 ⇨  
**गूलर**  
छाद्य फल सूची 190.2  
गूलर 190.16 ⇨  
गूलर का फूल  
असंभव घटना: उपमान सूची 75.17  
**गूहन**  
गोपन 824.1

**गूजन**  
शलगाम 189.35  
**गूद**  
गिद्ध 126.26  
**गूध्या**  
लोभ 359.6  
**गूध**  
गिद्ध 126.26  
लोभी 359.31  
**गूधकूट**  
गिरनार 17.3  
**गूधराज**  
जटायु 770.27  
**गूह**  
कमरा 614.1  
गूह 601.1 ⇨  
भवन 602.7  
संग्रहालय 669.8  
स्वराष्ट्रीय 881.31  
**गूह आगमन**  
गूहागमन 1100.4  
**गूह उद्योग**  
गूह उद्योग 557.6 ⇨  
**गूह उपवन**  
गूह उपवन 12.15 ⇨  
**गूह कर**  
गूह कर 647.9 ⇨  
**गूह कलह**  
कुटुंब युद्ध 905.15  
**गूहकार्य**  
गूहस्थी पालन 235.6  
**गूह कुलिंग**  
गीरिया 126.30  
**गूहगोष्ठा**  
छिपकली 123.7  
**गूहज दास**  
गूहज दास 651.14 ⇨  
गूहज दास [गूहज दासी]  
गूहज दास 651.14  
**गूहजन**  
परिवार जन 726.9  
**गूहत्याग**  
वानप्रस्थाग्नन प्रवेश 233.5  
**गूहत्यागी**  
संन्यासी 790.11  
**गूहबाह**  
कुटुंब युद्ध 905.15  
**गूहबीप्ति**  
सच्चरित्रा 810.8  
**गूह देव**  
गूह देवता 772.25  
**गूह देवता**  
गूह देवता 772.25 ⇨  
**गूह देवता ब्रह्मण**  
गूह पूजन 598.5  
**गूह देवी**  
गूह देवी 772.26 ⇨  
गूहस्थिन 235.4

## गृह निर्माण

### गृह निर्माण

भवन निर्माण 598.1

### गृहनीड

गीरेया 126.30

### गृहपति

गृहपति 235.5 ⇨

### गृहपति [गृहपत्नी]

आतिथेय 183.15

### गृहपत्नी

गृहस्थिन 235.4

यजमान. पत्नी 743.7

### गृह पूजन

गृह पूजन 598.5 ⇨

### गृह पूजा

गृह पूजन 598.5

### गृह प्रवेश

गृह प्रवेश 598.6 ⇨

वधु गृह प्रवेश 800.40

### गृह प्रवेश (दे.)

प्रवेशोत्सव 1094.5

### गृहप्रिय

बगला 126.54

### गृह भूमि

आवासीय भूखंड 598.3

### गृहभेद

कुटुंब युद्ध 905.15

### गृहभृग

कुत्ता 127.71

### गृहभौषिका

घमगादक 127.67

### गृहयुद्ध

गृहयुद्ध 905.16 ⇨

### गृहलक्ष्मी

गृह देवी 772.26

गृहस्थिन 235.4

पत्नी 803.6

### गृहवधु

गृहस्थिन 235.4

### गृह वाटिका

गृह उपवन 12.15

### गृह शांति

गृह पूजन 598.5

### गृहशीमा

सम्परित्रा 810.6

### गृहस्थ

आतिथेय 183.15

गृहपति 235.5

गृहस्थ 235.3 ⇨

गृहस्थ आग्रमी 235.11

परिवारयुक्त 726.14

यज्ञपति 753.4

### गृहस्थ आग्रम

गृहस्थ आग्रम 235.1 ⇨

घार आग्रम सूची 233.3

### गृहस्थ आग्रमी

गृहस्थ आग्रमी 235.11 ⇨

### गृहस्थ जीवन

गृहस्थ आग्रम 235.1

### गृहस्थाग्रम

गृहस्थ आग्रम 235.1

### गृहस्थाग्रम त्याग

वानप्रस्थाग्रम प्रवेश 233.5

### गृहस्थाग्रम प्रवेश

गृहस्थाग्रम प्रवेश 235.8 ⇨

विवाह 799.1

### गृहस्थाग्रम प्रवेश करना

गृहस्थाग्रम मे आना 235.10

### गृहस्थाग्रम में आना

गृहस्थाग्रम मे आना 235.10 ⇨

### गृहस्थिन

गृहस्थिन 235.4 ⇨

### गृहस्थी

एकक परिवार 726.5

गृहस्थी 235.2 ⇨

परिवार जन 726.9

बीवी बच्चे 726.11

### गृहस्थी कार्य

गृहस्थी पालन 235.6

### गृहस्थी चलाना

गृहस्थी पालना 235.9

### गृहस्थी पालन

गृहस्थी पालन 235.6 ⇨

### गृहस्थी पालना

गृहस्थी पालना 235.9 ⇨

### गृहस्थी बसाना

गृहस्थाग्रम मे आना 235.10

### गृहस्थी: मोह

गृहासक्ति 235.7

### गृहस्थीयुक्त

गृहस्थीयुक्त 235.12 ⇨

### गृहस्थी सदस्य

परिवार जन 726.9

### गृहस्वामिनी

गृहस्थिन 235.4

### गृह स्वामिनी

पत्नी 803.6

### गृहस्वामी

गृहपति 235.5

### गृहहीन

आवासहीन 617.11

खानाबदोश 1090.44

### गृहहीनता

आवासहीनता 617.1

खानाबदोशी 1090.5

### गृहागत

गृहागत 1100.7 ⇨

### गृहागमन

गृहागमन 1100.4 ⇨

### गृहाग्रम

गृहस्थ आग्रम 235.1

### गृहासक्ति

गृहासक्ति 235.7 ⇨

### गृहिणी

गृहस्थिन 235.4

पत्नी 803.6

### गृही

गृहस्थ 235.3

### गृहीत

स्वीकृत (अपराध) 876.27

### गृहीत (बोध)

प्राप्त (बोध) 301.28

### गृहीतता

अस्वाभाविकता 836.6

### गृहीय

गृहीय 601.13 ⇨

### गृहीयान

गृह उपवन 12.15

### गृह्य

गृहीय 601.13

पालतू 127.95

### गंगटा

केकडा 124.14

### गंठी

जर्मीकंद 189.21

### गंडली

कुंडली 973.8

### गंडुआ

गाव तकिया 593.65

### गंडुरी

ईडुरी 584.2

रस्ती सूची 570.6

### गंडुली

कुंडली 973.8

### गंडुवा

तकिया 593.63

### गंद

गंद 479.9 ⇨

वर्तुल पिंड 976.4

### गंदघर

बितियर्ड कक्ष 482.5

### गंद पिट्टू

पिट्टू खेल 476.13

### गंद प्रक्षेपण

गंद प्रक्षेपण 1052.6 ⇨

### गंदबल्ला

क्रिकेट 477.2

गंदबल्ला 476.7 ⇨

### गंदबाज़

गंदबाज़ 475.14 ⇨

### गंदबाज़ी

गंद प्रक्षेपण 1052.6

### गंद

उपवन पुष्प सूची 14.2

गंद 14.14 ⇨

### गंदुक

गंद 479.9

### गंज (औं)

मोटार्ई माप 958.13

ब्रण पट्टी 174.18

### गंजबो (औं)

दूरयकक्ष 614.25

### गंट (औं)

घारी 484.23

महल्ला 619.6

### गेटिस

गेटिस 571.27 ⇨

### गेव (औं)

बाज़ी 475.9

### गेव मंत्र

साम मंत्र 741.11

### गेर

अवपातन 1031.3

### गेरना

पतित करना 1031.16

### गेरीव

गला खूँटा 555.12

### गेरु

गेरु 290.21

### गेरुआ

गेरुआ 289.43 ⇨

### गेरु

गेरु 290.21 ⇨

### गेलिस

गेलिस 571.28 ⇨

### गेलिस (औं)

गेलिस 571.28

### गेल्हा

घी तेल कुप्पा 678.8

### गेरु

लट 223.15

स्त्री लट 223.16

### गेरुदराज

लबे केरा बाला 137.27

### गेह

गेह 601.1

भवन 602.7

### गेहनी

गृहस्थिन 235.4

पत्नी 803.6

### गेही

गृहस्थ 235.3

### गेहुँजन

गेहुँजन 123.20 ⇨

सर्प सूची 123.16

### गेहुँ

अनाज सूची 187.6

गेहुँ 187.8 ⇨

### गेहुँ बना

गेहुँ बना 187.20 ⇨

### गेहुँ भात

दलिया 202.8

### गँगो (औं)

केटवाक 1085.4

छतदार सीढ़ी 613.7

### गँग्रीन

गँग्रीन 167.5 ⇨

### गँग्रीन (औं)

गँग्रीन 167.5

### गँगडा

गँगडा 127.84 ⇨

**गैबलर (अँ)**  
घूतकर 481.8  
**गैब**  
अदूरय स्थान 33.2  
आंतरिकता 999.2  
**गैबरडीन**  
गैबरडीन 580.10 ⇨  
**गैबी**  
आंतरिक 999.12  
ईश्वर कृत 784.36  
विलुप्त 824.24  
**गैया**  
गाय 127.10  
**गैर**  
अपरिचित 697.16  
असदृश 310.6  
इतर 945.5  
परजन 725.3  
परदेशीय 34.18  
परिवर्तित 532.16  
**गैर-**  
रहित. उपसर्ग सूची 1007.5  
**गैर**  
विरोधी 886.7  
शत्रु 706.2  
**गैरआबाद**  
अनावासित 617.13  
**गैरआबादी**  
अनावासितता 617.3  
**गैरकमाऊ**  
अनर्जक 649.9  
**गैर का**  
परजनीय 725.7  
**गैरकानूनी**  
अवैध 878.27  
जारज 716.18  
**गैरकानूनीपन**  
अधिकारहीनता 898.1  
अवैधता 878.15  
**गैरसुधार**  
अस्वाभिमानी 859.7  
**गैरसुधारी**  
अस्वाभिमान 859.2  
**गैरज़रूरी**  
अनावश्यक 525.9  
महत्त्वहीन 853.8  
**गैरजानकार**  
अज्ञ 306.16  
**गैर जानकारी**  
अपरिज्ञान 306.8  
**गैरजानकारी में**  
विचारहीनता: 330.30  
**गैरज़िम्मेदार**  
दायित्व अपालक 896.6  
दायित्वहीन 896.5  
**गैरज़िम्मेदारी**  
दायित्वहीनता 896.1

**गैरज़िम्मेदार**  
दायित्वहीन 896.5  
**गैरज़िम्मेदारी**  
अशारीरिक '39.12  
निराकार 967.13  
**गैरत**  
गौरव 849.4  
लज्जा 845.1  
स्वाभिमान 858.3  
**गैरतकनीकी**  
अतकनीकी 515.9  
**गैरतमंब**  
स्वाभिमानी 858.11  
**गैरबुनियादी**  
व्यवहार अकुशल 829.9  
**गैरपन**  
इतरता 845.2  
**गैरपुरोहीनी**  
अदायागत 623.28  
**गैरमनकूला**  
स्थावर 1038.7  
**गैरमनकूला जायबाद**  
अघल संपत्ति 624.8  
**गैरमामूली**  
असामान्य 312.14  
**गैरमियादी**  
अवधिहीन 39.10  
**गैरमुभकिन**  
असंभव 68.14  
**गैरमुल्की**  
आप्रवासी 618.30  
परदेशीय 34.18  
**गैरमुत्तरका**  
एक स्वामीय 821.26  
**गैरमुसलिम**  
गैरमुसलिम 736.3 ⇨  
**गैरमुस्ताक़िल**  
अल्प कालीन 38.8  
**गैरमोज़ूद**  
अनुपस्थित 1022.7  
**गैरमोज़ूदगी**  
अनुपस्थिति 1022.2  
**गैरमोरूसी**  
अदायागत 623.28  
अनानुवंशिक 727.40  
**गैरयूरोपीय जातियाँ**  
अश्वेत जाति 730.8  
**गैर लोग**  
परजन 725.3  
**गैरवाज़िब**  
अवैध 878.27  
असंगत 439.5  
**गैरसिद्ध**  
मोना 137.29  
**गैरहाज़िर**  
अनुपस्थित 1022.7  
**गैरहाज़िर होना**  
नामा करना 494.2Q

**गैरहाज़िरी**  
अनुपस्थिति 1022.2  
**गैरिक**  
गेरुआ 289.43  
गेरु 290.21  
**गैरिक वस्त्र**  
साधु वेश 589.10  
**गैरेज (अँ)**  
गराज 1069.28  
**गैरेय**  
गेरु 290.21  
**गैस**  
गली 1063.49  
मार्ग 1063.1  
**गैसन**  
गैसन 959.47 ⇨  
**गैसन (अँ)**  
गैसन 959.47  
**गैसन: ह**  
हवाट 959.46  
**गैस बताना**  
छल करना 827.14  
**गैसरी (अँ)**  
गलियारा 615.8  
चित्रशाला 669.12  
संग्रहालय 669.8  
**गैलियोन (अँ)**  
नोका सूची 1072.3  
**गैल्बनीकरण**  
गैल्बनीकरण 292.7 ⇨  
**गैस**  
अपान वायु 245.15  
गैस 86.1 ⇨  
रसोई गैस 110.2  
**गैस (अँ)**  
गैस 86.1  
**गैस (अमरीका)**  
पेट्रोल 110.18  
**गैस इंजन**  
गैस इंजन 1078.4 ⇨  
**गैस कस**  
गैस घेबर 871.11  
**गैस का हंडा**  
गैसलाइट 285.7  
**गैस घेबर**  
गैस घेबर 871.11 ⇨  
**गैस घेबर (अँ)**  
गैस घेबर 871.11  
**गैस यान**  
यात यान 1074.15  
**गैसलाइट**  
गैसलाइट 285.7 ⇨  
**गैसलीन (अँ)**  
पेट्रोल 110.18  
**गैस लैंप (अँ)**  
गैसलाइट 285.7  
**गैसीय अवस्था**  
गैसीय अवस्था 79.3 ⇨

**गैसीय ईंधन**  
रसोई गैस 110.2  
**गैस्टरूम**  
गैस्टरूम 1090.30 ⇨  
**गैस्ट रुम (अँ)**  
गैस्टरूम 1090.30  
**गैस्ट हाउस**  
गैस्ट हाउस 1090.31 ⇨  
**गैस्ट हाउस (अँ)**  
गैस्ट हाउस 1090.31  
**गोछ**  
गलमुच्छा 136.2  
**गोकला**  
बाहरी घेरा 972.7  
**गोब**  
गोद 1012.7 ⇨  
चेपय्य सूची 1012.4  
वृक्ष नियांस 84.8  
**गोदोला**  
गोदोला 1072.16 ⇨  
**गोदोला (अँ)**  
गोदोला 1072.16  
नोका सूची 1072.3  
**गोंका**  
बौद्ध मंदिर 745.39  
**गो**  
हृदिय 268.1  
-गो  
कथन कर्ता 430.18  
**गो**  
गाय 127.10  
नो उपमान सूची 948.34  
पशु 127.1  
पशुधन 127.7  
पृथ्वी 9.1  
सरस्वती 775.8  
**गोआ**  
गोआ 28.25 ⇨  
**गो आगमन समय**  
गोधुलि बेला 47.12  
**गोआ: राजधानी**  
गोआ. राजधानी 28.26 ⇨  
**गोईदा**  
गोबर: उपला 110.14  
**गोईका**  
ग्राम परिक्षेत्र 620.3  
**गोईबा**  
गुप्तघर 866.12  
**गोई**  
कथन 430.1  
स्त्री मित्र 705.3  
**गो कि**  
यद्यपि 507.14  
**गोकुंजर**  
नंदी 767.14  
**गोकुल**  
कृष्ण: ग्राम 771.13  
गाय समूह 690.10

## गोकुल चंद्रमा

गोशाला 803.24  
गोकुल चंद्रमा  
अष्ट कृष्ण सूची 771.3  
गोकुल नाथ  
अष्ट कृष्ण सूची 771.3  
कृष्ण 771.1  
गोकुरी  
गोहत्या 206.46  
गोक  
गोक 122.8  
गोक्षीर  
गायः दूध 193.4  
गोकेश्वर  
चरागाह 556.10  
गोखरु  
डील 185.8  
लोह कंटक गुच्छा 1016.35  
गोखा  
आला 671.18  
गवाक्ष 608.15  
गोघुरा  
करत 123.18  
गोघोर  
गोमक्षी 205.6  
गोप्रथि  
सूखा गोबर 110.13  
गोभ्रास  
जीवार्थ आहार सूची 183.29  
गोघात  
गोहत्या 206.46  
गोघना  
गेहूँ घना 187.20  
गोघर  
इंद्रियगम्य 305.40  
ज्ञेय 305.38  
दृश्यमान 282.19  
साकार 967.12  
गोघर ज्ञान  
प्रत्यक्ष ज्ञान 305.5  
गोघरता  
ज्ञेयता 305.20  
दृश्यता 282.9  
साकारता 967.1  
गोघर भूमि  
चरागाह 556.10  
गोघर्म  
गो घर्म 582.9  
गो घर्म  
गो घर्म 582.9 ⇌  
गोघर्मवसन  
शिव 767.1  
गो चारक  
गाय वैस चरवाहा 556.9  
गोज  
अपान वायु 245.15  
गोज  
दूध उत्पाद 193.1

गो जल  
गोमूत्र 216.16  
गोजिह्वा  
फूल गोभी 189.17  
गोजी  
लाठी 923.9  
गोझा  
गुझिया 203.8  
बौस कील 1016.13  
गोट  
गोट 571.35 ⇌  
गोटी 479.1  
पिकनिक 1085.8  
मंडली 691.5  
मित्र मंडली 705.4  
गोटा  
गोटा 571.37 ⇌  
टिकिया 977.13  
गोटा: चुनरी  
लाल चुनरी 585.15  
गोटा झालर  
गोटा झालर 571.40 ⇌  
गोटा: सक्की  
सेहरा 802.26  
गोटिया चाल  
कूट युक्ति 819.8  
गोटी  
कूट युक्ति 819.8  
गोटी 479.1 ⇌  
गोली 977.4  
बाजीगर: गोटी 473.20  
गोटी: घर  
गोटी: घर 479.2 ⇌  
गोटी फिट होना  
युक्ति लगना 517.8  
गोठ  
गोशाला 603.24  
ग्राम 620.1  
पिकनिक 1085.8  
मित्र मंडली 705.4  
सभा 694.1  
गोक  
गुडार्ई 548.30  
पैर 149.12  
गोकइत  
ग्राम पहरेदार 908.12  
गोकना  
खोदना 1018.11  
गुडार्ई करना 548.44  
गोका  
पाया 596.15  
गोका [गोका]  
गुका [गुकी] 548.59  
गोकाई  
गुडार्ई 548.30  
गोकाउन (अँ)  
भंडार घर 670.5

गोकाउन कीपर (अँ)  
भंडार अध्यक्ष 670.6  
गोकी जमना  
युक्ति लगना 517.8  
गोत  
गोत्र 729.1  
वंश 727.1  
गोतम  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
गोतम: पत्नी  
अहल्या 770.17  
गोतमस्तोम  
संतान प्राप्ति यज्ञ सूची 239.4  
गोतमी  
अहल्या 770.17  
गोता  
डाइविंग 483.12  
बुबकी 1031.10  
सबनजैस 1080.14  
गोता खाना  
बुबकी लगाना 1031.21  
गोताखोर  
डाइवर 483.13  
गोताखोरी  
पनबुझापन 483.14  
गोताखोरी यान  
बुबकी यान 1072.38  
गोतामार  
डाइवर 483.13  
पनबुझी 1072.39  
गोता मारना  
डाइव करना 483.24  
गोता लगाना  
डाइव करना 483.24  
बुबकी लगाना 1031.21  
गोतिया  
सगोत्रीय 729.13  
गोती  
गोत्र जन 729.4  
गोत्रीय 729.12  
सगोत्रीय 729.13  
गोती भाई  
गोत्र जन 729.4  
गोत्र  
गोत्र 729.1 ⇌  
गोत्रीय 729.12  
जाति 730.1  
वंश 727.1  
संघ 692.13  
समूह 690.1  
गोत्रकर्ता  
गोत्र प्रवर्तक 729.6  
गोत्रकार  
गोत्र प्रवर्तक 729.6  
गोत्रकारी  
गोत्र प्रवर्तक 729.6  
गोत्रज  
सगोत्रीय 729.13

गोत्र जन  
गोत्र जन 729.4 ⇌  
गोत्र नाम  
वंश नाम 315.7  
गोत्रपट  
वंशावली 727.13  
गोत्रप्रवर  
गोत्र प्रवर्तक 729.6  
गोत्र प्रवर्तक  
गोत्र प्रवर्तक 729.6 ⇌  
गोत्र प्रवर्तक ऋषि  
गोत्रर्षि 789.5  
गोत्र प्रवर्तन  
गोत्र प्रवर्तन 729.5 ⇌  
गोत्र बंधु  
गोत्र जन 729.4  
गोत्रर्षि  
गोत्रर्षि 789.5 ⇌  
गोत्रर्षि: चरंपरा  
गोत्र 729.1  
गोत्र वर्णन  
वंशानुकीर्तन 727.15  
गोत्र बाला  
गोत्रीय 729.12  
गोत्र संस्थापना  
गोत्र प्रवर्तन 729.5  
गोत्रहीन  
अज्ञातवंश 727.38  
गोत्रा  
गाय समूह 690.10  
पृथ्वी 9.1  
गोत्री  
सगोत्रीय 729.13  
गोत्रीय  
गोत्रीय 729.12 ⇌  
गोत्रोच्चार  
वंशानुकीर्तन 727.15  
गोद  
गोदी 721.7  
गोद जाना  
दत्तक बनना 716.14  
गोदनरी  
दत्तक 716.20  
गोदनरीनी  
दत्तक संस्कार 716.5  
गोदनहार [गोदनहारी]  
गुदाई कर्मी 408.30  
गोदना  
कटाक्ष करना 844.7  
गुदाई करना 406.39  
गुदाई कृति 406.31  
गोदने बाला  
गुदाई कर्मी 406.30  
गोद बिठाना  
दत्तक बनाना 716.13  
गोद बैठना  
दत्तक बनना 716.14

गोद भरना  
प्रसव होना 244 10  
गोद भराई  
गोद भराई 800.10 ⇨  
गोद लिया [गोद ली]  
दत्तक 716.20  
गोद लिया बेटा  
दत्तक पुत्र 716.6  
गोद ली बेटा  
दत्तक पुत्री 716 7  
गोद लेना  
दत्तक बनाना 716.13  
गोदा  
गोदा 190 1.7 ⇨  
गोदावरी 20 14  
गोदान  
गोदान 641.14 ⇨  
गोदाम  
भंडार घर 670.5  
गोदाम प्रभार  
भंडार प्रभार 670.7  
गोदाम भाड़ा  
भंडार प्रभार 670 7  
गोदाकृष्ण  
हल 563.8  
गोदावरी  
गोदावरी 20.14 ⇨  
भारत उपमहाद्वीप. नदी सूची 20 7  
गोदी  
गोदी 721 7 ⇨  
नीका घाट 1069 12  
पार्श्व भाग 997.5  
गोदी में खिलाना  
गोदी में हुलारना 721 11  
गोदी में हुलारना  
गोदी में हुलारना 721.11 ⇨  
गोदी विषयक  
गोदी विषयक 721.17 ⇨  
गोदी हुलाराई  
गोदी हुलाराई 721.8 ⇨  
गोदुग्ध  
गायः दूध 193.4  
गो बोहनी  
दोहन पात्र 554.7  
गोद्वार  
गाय बैस 127.9  
गोद्व  
गोह  
गोह 123.4  
गोधन  
गाय बैस 127.9  
गोद्वर  
पर्वत 16.3  
गोद्व्या  
कलाई कवच 921.7  
गोह 123.4  
गोद्विका  
गोह 123.4  
छिपकली 123.7

गोधुलि बेला  
गोधुलि बेला 47.12 ⇨  
गोधुम  
गेहूँ 187 8  
गोधुमक  
गेहूँअन 123.20  
गोधुलि  
गोधुलि बेला 47.12  
गोधुलि बेला  
गोधुलि बेला 47.12  
पशु बलि समय 754.9  
गोन  
खरिया 673.19  
जलयान. रस्ती 1073.16  
गोनद (प्र)  
जनिद 132 11  
गोनर  
सौंड 127.12  
गोनरखा  
मस्तूल 1073 11  
गोनई  
नागर मोथा 281 22  
शिव 767.1  
सारस 126 74  
गोनस  
वैक्रांत 96.27  
गोनाथ  
गोप 771 31  
बैल 127.13  
सौंड 127.12  
गोनाथ  
गाय बैस. चरवाहा 556 9  
गोनिया  
हुली 1061 4  
गोनिया 559 14 ⇨  
नीका कर्षक 1080 4  
गोनी  
बोरा 673 18  
बोरी 673.20  
सन 568.2  
गोनेड (अं)  
जनिद 132 11  
गोप  
गाय बैस. चरवाहा 556 9  
गोप 771.31 ⇨  
ग्राम. मुखिया 892.6  
चरवाहा [चरवाहन] 556 8  
संरक्षक 908.26  
गोप कन्या  
गोपी 771.32  
गोपजा  
गोपी 771.32  
राधा 771.83  
गोपति  
कृष्ण 771.1  
गोस्वामी 554.4  
सौंड 127.12  
सूर्य 8.1

गोपन  
अनभिव्यक्ति 429.1  
गोपन 824.1 ⇨  
गोपन करना  
गोपन करना 824.14 ⇨  
गोपन कर्ता  
गोपयिता 824.22  
गोपनीय  
गोपनीय 824.21 ⇨  
गोपनीयता  
गोपनीयता 824.3 ⇨  
गोपनीयता शपथ  
गोपनीयता शपथ 824.4 ⇨  
गोपयिता  
अभिपिता 720 12  
गोपयिता 824.22 ⇨  
संरक्षक 908 26  
गोप बधु  
गोपी 771 32  
गोपांगना  
गोपी 771.32  
गोपा  
गोपी 771.32  
गोपाल  
कृष्ण 771 1  
गाय बैस: चरवाहा 556.9  
गोप 771 31  
गो पालक 554 3  
नंद 771.67  
गो पालक  
गोप 771.31  
गो पालक 554 3 ⇨  
गोपालक  
शिव 767 1  
गोपाल गाली  
गाली गीत 796 22  
सीठना 800.51  
गो पालन  
गो पालन 554.2 ⇨  
गोपालिका  
गोपी 771 32  
गोपाली  
कृष्ण विषयक 771.99  
गोपी 771 32  
गोपिका  
गोपी 771 32  
गोपित  
गुप्त 824 20  
गोरोचन 274.19  
रक्षित 908.19  
गोपिनी  
गोपी 771.32  
गोपी  
गोपी 771.32 ⇨  
राधा 771.83  
गोपी [गोपिनी]  
गोपयिता 824.22

गोपी कृष्ण  
कृष्ण 771.1  
गोपी चंदन  
गोपी चंदन 100 14 ⇨  
गोपीनाथ  
कृष्ण 771 1  
गोपी बाला  
गोपी 771.32  
गोपी बाला (कृष्ण जन्म काल)  
अप्सरा 782.2  
गोपीश  
कृष्ण 771.1  
गोपुटा  
बकी इलायची 281.10  
गोपुत्र  
कर्ण 771.47  
गोपुर  
गोपुर 608.8 ⇨  
गोपुरथ  
गोपुर 608.8  
गोपेश  
कृष्ण 771.1  
गोप्ता  
गोपयिता 824.22  
भंडार अध्यक्ष 670 6  
विष्णु 768.1  
वैश्य 731 24  
शिव 767.1  
संरक्षक 908.26  
गोप्य  
गोपनीय 824.21  
गोप्यता  
गोपनीयता 824.3  
गोफण  
गोफन 926 5  
गोफन  
गोफन 926.5 ⇨  
गोफना  
गोफन 926.5  
गोफा  
अंकुर 113.1  
गोफन 926.5  
पल्लवांकुर 113.3  
गोफिया  
गोफन 926.5  
गोबर  
गोबर 110.12 ⇨  
वज्रधी 302.9  
गोबर (धे. ईंधन)  
पशु विष्ठा 216.6  
गोबर: उपला  
गोबर: उपला 110.14 ⇨  
गोबर: खाद  
गोबर: खाद 552.11 ⇨  
गोबर गणेश  
मूर्ध व्यक्ति 302.2  
वज्रधी 302.9

## गोबर गैस

**गोबर गैस**  
गोबर गैस 110.3 ⇌

**गोबर मिट्टी लिपार्ई**  
लिपार्ई पुताई 218.4

**गोबरी**  
लिपार्ई पुताई 218.4

**गोबलि**  
गोमेघ 754.15

**गोमकी**  
गोमकी 205.6 ⇌

**गोभा**  
लहर 1040.17

**गोभिल**  
ऋषि मुनि सूची 789.17

**गोभी**  
फूल गोभी 189.17  
साग सब्जी सूची 189.4

**गो मकी**  
ऊँस 122.27

**गोमती**  
भारत उपमहाद्वीप: नदी सूची 20.7

**गोमय**  
गोबर 110.12  
गोबर: खाद 552.11

**गो मांस**  
गो मांस 206.21 ⇌

**गो माता**  
गाय 127.10

**गोमुख**  
घडियाल 123.5  
जपमाला धैली 673.14

**गोमुखी**  
जपमाला: धैली 673.14

**गोमुखी भवन**  
गोमुखी भवन 602.30 ⇌

**गोपूत्र**  
गोपूत्र 216.16 ⇌

**गोमेद**  
गोमेद 96.9 ⇌  
नवरत्न सूची 96.7  
रत्न सूची 96.5

**गोमेघ**  
गोमेघ 754.15 ⇌

**गोयदा**  
कथन कर्ता 430.18

**गोया**  
सादृश्य उक्ति सूची 309.26

**गोया कि**  
सादृश्य उक्ति सूची 309.26

**गोयार**  
पनडुब्बा 126.48

**गोरकु**  
मग्न साधु 790.19  
मंत्र पाठी 749.15

**गोर**  
ऋत्र 254.18

**गो रक्षक**  
गोप 77.1.31

928

**गोरक्ष कर्कटी**  
फूट 190.25

**गो रक्षण**  
गोरक्षा 206.47

**गोरक्षा**  
गोरक्षा 206.47 ⇌

**गोरखधंधा**  
गोरखधंधा 333.18 ⇌

**गोरखधंधा (वे.)**  
भ्रामक मार्ग 1063.5

**गोरख पंथ**  
गोरख पंथ 737.56 ⇌

**गोरखा**  
नेपाली 27.26

**गोरखाली**  
नेपाली 27.26

**गोरस**  
ऐंद्रिक सुख 390.5  
गाय: दूध 193.4  
दही 193.9  
मट्ठा 193.10

**गोरसी**  
अँगोठी 109.5  
गोरा [गोरी] श्वेत 289.65

**गोरा काला**  
काला सफ़ेद 289.76

**गोराराही**  
उपनिवेश वाद 804.13

**गोरिका**  
मैना 126.67

**गोरिल्ला**  
गोरिल्ला 127.92 ⇌

**गोरी**  
गौरवर्ण स्त्री 157.3  
हूर 782.7

**गोरी जाति**  
श्वेत जाति 730.7

**गोरू**  
गाय मैस 127.9  
पशुधन 127.7

**गोरोच**  
हरताल 92.13

**गोरोचन**  
गोरोचन 274.19 ⇌

**गोर्ध**  
मस्तिष्क 140.9

**गोर्लंदाज़**  
बम वर्षक विमान 1074.18

**गोर्लंदाज़ी**  
बमबारी 905.28

**गोर्लंबर**  
गुंबद 611.5  
गोल चबूतरा 610.8  
छोटा गुंबद 611.6

**गोल**  
अव्यवस्थित समूह 690.4

**गोल**  
गोल 475.28 ⇌

**गोल**  
दल 691.1

**गोल**  
पीपा 678.13  
पृथ्वी गोला 10.3  
फूला [फूली] 988.13  
बड़ा घड़ा 679.3

**गोल**  
मंडली 691.5

**गोल**  
मोटा [मोटी] 985.12  
वर्तुलाकार 976.16  
वृत्त (चक्र) 972.1  
वृत्ताकार 972.15

**गोल (अँ)**  
गोल 475.28

**गोल आकृति**  
वर्तुल पिंड 976.4

**गोलक**  
गण निधि 628.6  
गुंबद 611.5  
गुल्लक 630.5  
गोल पिंड 977.1  
गोली 479.7  
नेत्र पुतली 141.5  
पृथ्वी 9.1  
पृथ्वी: गोला 10.3  
बड़ा मुँह: घड़ा 679.4  
ब्रह्मांड 1.1  
वर्तुल पिंड 976.4

**गोल कमरा**  
झाड़ग रूम 614.16

**गोल करना**  
वर्तुल करना 976.14

**गोलकी**  
गोल रक्षक 475.12

**गोल कीपर (अँ)**  
गोल रक्षक 475.12

**गोलगप्या**  
गोलगप्या 200.12 ⇌

**गोल घूमना**  
घूमना 1033.14

**गोल चबूतरा**  
गोल चबूतरा 610.8 ⇌

**गोलषी**  
गोल रक्षक 475.12

**गोल चौराहा**  
गोल चौराहा 1064.6 ⇌

**गोल जीना**  
गोल जीना 613.2 ⇌

**गोल डिब्बा**  
गोल डिब्बा 676.2 ⇌

**गोल तकिया**  
गाय तकिया 593.65

**गोल बावरा**  
वृत्त (चक्र) 972.1

**गोल पिंड**  
गोल पिंड 977.1 ⇌  
वर्तुल पिंड 976.4

**गोल पिटारी**  
गोल पिटारी 677.14 ⇌

**गोलप्राय**  
वर्तुलप्राय 976.18

**गोलप्राय पिंड**  
वर्तुलप्राय पिंड 976.6

**गोल बनाना**  
वर्तुल करना 976.14

**गोल बाट**  
गोल बाट 977.16 ⇌

**गोल बीज**  
मटर दाना 977.8

**गोल बुंवकी**  
गोल बुंवकी 578.9 ⇌

**गोल मंजूषा**  
गोल पिटारी 677.14

**गोल मंडप**  
गोल मंडप 600.10 ⇌

**गोल मटोल**  
ठिंगना मोटा [ठिंगनी मोटी] 154.21  
स्थूलकाय 154.29

**गोलमाल**  
क्रमहीनता 982.1  
गण्ड चौथ 294.11  
घोटाला 865.8

**गोल मिर्च**  
काली मिर्च 278.4

**गोल रक्षक**  
गोल रक्षक 475.12 ⇌

**गोल रोशनदान**  
पोर्टहोल 608.19

**गोल होना**  
फूलना 988.8

**गोला**  
अहाता बाज़ार 663.2  
कुमकुमा 571.48  
गोल पिंड 977.1  
गोला 575.5 ⇌  
गोला 977.3 ⇌  
तना 114.7  
दुर्गा 778.7  
नारियल: गिरी 112.6  
परिधि 972.4  
पांड 599.30  
पृथ्वी 9.1  
पृथ्वी: अंडाकार मानचित्र 10.18  
बड़ा मुँह: घड़ा 679.4  
बम गोला 927.12  
बल्ला 597.5  
बारूद गोला 927.11  
बाँग: गोली 210.2  
मंथन: पात्र 554.13  
रिंग 482.18  
वर्तुल पिंड 976.4  
वृत्त (चक्र) 972.1



सुन्यः उपमान सूची 948.15  
 सुन्य चिह्न 948.14  
 समवर्तुल पिंड 976.5  
 स्त्री मित्र 705.3  
**गोलाकार**  
 वर्तुलाकार 976.16  
 वृत्ताकार 972.15  
**गोलाकार छत**  
 गुंबद 611.5  
**गोलाकृति**  
 वर्तुल पिंड 976.4  
**गोला गिरी**  
 पान मसाला सूची 213.20  
**गोलाधार**  
 अनवरत (वर्षा) 54.24  
**गोला बनाना**  
 वर्तुल करना 976.14  
**गोलाबारी**  
 बनबारी 905.28  
**गोला बारूद**  
 आयुध 922.1  
 बारूद 927.20  
**गोलार्ध**  
 भूगोलार्ध 10.4  
**गोली**  
 गोटी 479.1  
 गोल पिंड 977.1  
 गोली 479.7 ⇨  
 गोली 977.4 ⇨  
 छोटा घड़ा 679.2  
 टिकिया 977.13  
 नव वधुः दासी 801.13  
 बंदूकः गोली 927.9  
 बिलियर्ड गोली 479.8  
 भौंग. गोली 210.2  
 मिठाईः गोली 203.51  
 वटी 176.25  
 वर्तुल पिंड 976.4  
**गोली कंचा**  
 गोली कंचा 476.8 ⇨  
**गोलीघर**  
 बारूद घर 929.5  
**गोली पहिया**  
 कास्टर पहिया 1077.3  
**गोली बनाना**  
 वर्तुल करना 976.14  
**गोलीबारी**  
 गोलीबारी 905.27 ⇨  
**गोली बेयरिंग**  
 बाल बेयरिंग 1077.22  
**गोली बर्षा**  
 गोलीबारी 905.27  
**गोलोक**  
 मोक्ष लोक 258.10  
 स्वर्ण 259.1  
**गोल्ड (अं)**  
 स्वर्ण 95.4

**गोल्डन जुबिली (अं)**  
 स्वर्ण जयंती 58.6  
**गोल्फ**  
 गोल्फ 477.5 ⇨  
**गोल्फ (अं)**  
 गोल्फ 477.5  
**गोल्फ मैदान**  
 गोल्फ मैदान 482.15 ⇨  
**गोल्फ लिक्स (अं)**  
 गोल्फ मैदान 482.15  
**गोबंशः माता**  
 सुरभि 787.27  
**गोवत्स**  
 गाय. बछड़ा 230.14  
**गोवत्सक**  
 बुलबुल 126.59  
**गोवधुटी**  
 गोपी 771.32  
**गोवर्धन धारी**  
 कृष्ण 771.1  
**गोविंद**  
 कृष्ण 771.1  
 गोप 771.31  
 बृहस्पति 789.22  
 विष्णु 768.1  
 शिव 767.1  
**गोविंद सिंह**  
 गोविंद सिंह 794.3 ⇨  
 सिख गुरु सूची 7. 2  
**गोविंदा**  
 कृष्ण 771.1  
**गोविंदाष्टमी**  
 जन्माष्टमी 57.7  
**गो विद्या**  
 गोबर 110.12  
**गोवृंद**  
 गाय समूह 690.10  
**गोब्रज**  
 गाय समूह 690.10  
 गोशाला 603.24  
 चरागाह 556.10  
**गोशमाली**  
 कान उमेठी 870.5  
**गोशबारा**  
 जोड़ फल 954.3  
 टोप टोपीः कलगी 584.19  
 रोजनामचा 632.20  
 तेषा पुस्तकः खाना शीर्षक 632.19  
 घेतन चिट्ठा 632.24  
**गोशा**  
 एकात स्थान 697.4  
 कोण 970.1  
 कोना 607.6  
 दिशा 29.1  
**गोशानशीनी**  
 पृथकचर्या 697.1  
**गोशाला**  
 गोशाला 603.24 ⇨

**गोशुंग**  
 बबुल 13.15  
**गोसत**  
 खाद्य मांस 206.11  
 गो मांस 206.21  
 मांस 132.1  
**गोसतः काट**  
 मांस खंड 206.25  
**गोसतज्ञोपर**  
 सामिपाहारी 205.4  
**गोसठ**  
 गोशाला 603.24  
 पशुशाला 603.19  
**गोष्ठी**  
 गोष्ठी 694.4 ⇨  
 सत्संग 749.21  
**गोष्ठी (वे.)**  
 सभा 694.1  
**गोष्ठी कर्ता**  
 परिचर्या कर्ता 436.11  
**गोष्ठीः शोभा**  
 गोष्ठीः शोभा 694.5 ⇨  
**गो संवर्धन**  
 गो पालन 554.2  
**गोसत्र**  
 गोमेध 754.15  
**गोसर्प**  
 गोह 123.4  
**गोसब**  
 गोमेध 754.15  
**गोसा**  
 गोबरः उपला 110.14  
**गोसाई**  
 गोस्वामी 554.4  
 धर्माचार्य 790.2  
 स्वामी 621.2  
**गोस्वामी**  
 ईश्वर 764.1  
 गोस्वामी 554.4 ⇨  
 जितेंद्रिय 364.14  
 धर्माचार्य 790.2  
**गोह**  
 गुहाघासी 616.20  
 गोह 123.4 ⇨  
**गोहत्या**  
 गोहत्या 206.46 ⇨  
**गोहरा**  
 गोबरः उपला 110.14  
**गोहारी**  
 डिमरेज 670.8  
**गोही**  
 गुप्त सूचना 866.17  
**गी**  
 कूट युक्ति 819.8  
 घात प्रतीक्षा 914.1  
**गी का यार**  
 सस्वार्थ मित्र 705.8

**गी गौठना**  
 स्वार्थ साधन करना 712.12  
**गीणिग**  
 आभूषण व्यापारी 566.11  
**गींठी**  
 ईषः नीरस ऊपरी भाग 526.4  
**गी**  
 पृथ्वी 9.1  
**गीख**  
 पंचायत घर 695.4  
**गीखा**  
 गो चर्म 582.9  
**गीगल्स (अं)**  
 धूप का चरना 283.3  
**गीगाई**  
 सतबहनी चरखी 126.36  
**गीड**  
 गीड 764.14 ⇨  
**गीड**  
 राग रागिनी सूची 457.24  
**गीड (अं)**  
 ईश्वर 764.1  
 गीड 764.14  
**गीड जीटर (अं)**  
 धर्म पुत्री 716.11  
**गीड फ़ादर (अं)**  
 धर्म पिता 716.8  
**गीड मदर (अं)**  
 धर्म माता 716.9  
**गीड मस्सार**  
 राग रागिनी सूची 457.24  
**गीड सन (अं)**  
 धर्म पुत्र 716.10  
**गीण**  
 अप्रधान 853.9  
 अस्वाभाविक 836.12  
 गीण कोटीय 936.9  
 गीण लक्षणयुक्त 317.24  
**गीण उत्पाद**  
 गीण उत्पाद 546.2 ⇨  
**गीण कथा**  
 गीण कथा 466.9 ⇨  
**गीण कोटि**  
 गीण कोटि 936.3 ⇨  
**गीण कोटीय**  
 गीण कोटीय 936.9 ⇨  
**गीणता**  
 अप्रधानता 853.2  
 अस्वाभाविकता 836.6  
**गीण पाप**  
 गीण पाप 812.2 ⇨  
**गीण रस**  
 अप्रधान रस 455.3  
**गीण लक्षण**  
 गीण लक्षण 317.7 ⇨  
**गीण लक्षणयुक्त**  
 गीण लक्षणयुक्त 317.24 ⇨

## गौण वर्ग

### गौण वर्ग

गौण कोटि 936 3

### गौण वर्गीय

गौण कोटीय 936 9

### गौणिक

गौण लक्षणयुक्त 317 24

### गौतम

कृपाचार्य 771 51

गौतम बुद्ध 793 1

### गौतम बुद्ध

गौतम बुद्ध 793 1 ⇨

### गौतमी

अहल्या 770 17

गोदावरी 20 14

गोरोचन 274 19

दुर्गा 776 7

बौद्ध धर्म 737 6

### गौद

गुच्छ 686 17

फल गुच्छ 686 18

### गौदा

फल गुच्छ 686 18

### गौन

गमन 1091 1

### गौनहाई

गौनहाई 799 66 ⇨

### गौनहार

नव वधु दासी 801 13

### गौनहारी

गायिका वेश्या 807 6

### गौना

गौना 800 11 ⇨

### गौना होना

गौना होना 799 58 ⇨

### गौमतेश्वर

शिवलिंग सूची 746 17

### गौर

गौरी पूजन 800 12

जलपक्षी सूची 126 7

### गौर

ध्यान 331 1

### गौर

पार्वती 776 9

पीला 289 54

बृहस्पति ग्रह 7 6

### गौर

विचारण 330 5

विवेचन 427 14

### गौर

श्वेत 289 65

### गौर

सूक्ष्म निरीक्षण 284 18

### गौर करना

ध्यान करना 331 8

विचार करना 330 13

### गौर तलब

विचारणीय 330 20

### गौरव

अभिमान 858 1

गौरव 849.4 ⇨

प्रतिष्ठा 849 2

भारयुक्तता 963 2

महत्त्व 852 1

महानता 839 1

वैभव 226 5

### गौरवपूर्ण

उन्नतभरतक 858 12

गौरवपूर्ण 849 18 ⇨

वैभवशाली 226 15

### गौरवपूर्णता

महानता 839 1

### गौरवपूर्ण होना

गौरवपूर्ण होना 849 12 ⇨

### गौरव प्रदर्शन

दर्प 858 5

### गौरव भ्रांति

सुख भ्रांति 342 2

### गौरव मंडित

गौरवपूर्ण 849.18

### गौरवर्ण स्त्री

गौरवर्ण स्त्री 157 3 ⇨

### गौरवशाली

गौरवपूर्ण 849 18

महान 839 8

वैभवशाली 226 15

### गौरवहीन

गौरवहीन 850 6 ⇨

### गौरवहीनता

गौरवहीनता 850 2 ⇨

### गौरवान्वित

गौरवपूर्ण 849 18

### गौरवान्वित होना

गौरवपूर्ण होना 849 12

### गौरवासन

सम्मान स्थान 854 7

### गौरवित

गौरवपूर्ण 849 18

### गौर से

ध्यानपूर्वक 331 16

### गौरांग

विष्णु 768 1

### गौरांगी

गौरवर्ण स्त्री 157 3

छोटी इलायची 281 9

### गौरा

हलदी 281 38

### गौरिल

लोह धूर्ण 93 10

### गौरी

गौरवर्ण स्त्री 157 3

तुलसी 13 9

पार्वती 776 9

### गौरी गणेश पूजन

सकट चौथ 57 28

### गौरीज

गणेश 773 22

### गौरीनन्द

शिव 767 1

### गौरीपट्ट

शिवलिंग अरघा 746 15

### गौरी पूजन

गौरी पूजन 800.12 ⇨

### गौरी शंकर

भारत उपमहाद्वीपः पर्वत सूची 17.1

### गौरीश

शिव 767 1

### गौरिया

गौरिया 126 30 ⇨

### गौरो क्रिक

विमर्श 330 11

### गौस्पल (ओं)

न्यू टेस्टामेंट 739 12

### गौहर

जौहर प्रथा 249 14

मोती 97.2

रत्न 96 1

### गौहरी

रत्न व्यापारी 566.13

### ग्याक (तिब्बती)

सुरागाय, 127 49

### ग्यान

ज्ञान 305 1

### ग्यारस

एकादशी 44 17

### ग्यारह

ग्यारह 948.40 ⇨

### ग्यारहः उपमान सूची

ग्यारह उपमान सूची 948.41 ⇨

### ग्यारह-पंदरह वर्षः अवस्था

किशोर अवस्था 230.27

### ग्यारह रुद्र

ग्यारह रुद्र 767.35 ⇨

तैत्तिरीय देवता सूची 772 35

### ग्यारहवीं [ग्यारहवीं]

ग्यारहवीं [ग्यारहवीं] 948.97 ⇨

### ग्रंथ

अनुष्टुभ 452.8

पुस्तक 446 1

संग्रहित 573 15

### ग्रंथक

जिल्दसाज़ 418 11

संग्रथक 573.16

### ग्रंथकार

पुस्तक लेखक 448.4

### ग्रंथकुटी

पुस्तकालय 689 13

### ग्रंथ खंड

पुस्तक खंड 447.1

### ग्रंथन

जिल्दसाज़ी 418.10

संग्रथन 573.1

सूत्रबद्धन 573.3

### ग्रंथन कर्ता

संग्रथक 573 16

### ग्रंथ माला

पुस्तक माला 446.32

### ग्रंथ लेखक

पुस्तक लेखक 448 4

### ग्रंथ साहब

गुरुग्रथ 740 7

### ग्रंथगार

पुस्तकालय 669 13

### ग्रंथालय

पुस्तकालय 669.13

### ग्रंथावली

पुस्तक माला 446 32

### ग्रंथि

अकुरण बिंदु 117 2

अवयव संधि 139 10

आबद्धन उपकरण 1013 7

उँगलीः पोरवा 150 21

कठोर विष्ठा 216.3

कुंठा ग्रंथि 352 6

गिलटी 166 4

ग्रंथि 572.1 ⇨

ग्रंथिल कंद 111 11

धुंडी 977 5

डील् 165 8

धोती साड़ी गाँठ 586 29

पाश 1013 8

शरीर ग्रंथि 132.8

ग्रंथिक (अज्ञातवासः नाम)

सहदेव 771 96

### ग्रंथित

जिल्दबद्ध 418 14

संग्रथित 573.15

सूत्रबद्ध 573 17

### ग्रंथि बंधन

संग्रथन 573 1

### ग्रंथि मुक्त

ग्रंथि मुक्त 574.12 ⇨

### ग्रंथिमूल

ग्रंथिल कंद 111 11

लहसुन 281.29

### ग्रंथि मोषक

ग्रंथि मोषक 574.13 ⇨

### ग्रंथि मोषन

कुंठा मोषन 352.12

ग्रंथि मोषन 574.3 ⇨

### ग्रंथिराज

पीयूषिद 132 15

### ग्रंथिल

ग्रंथिल 573.19 ⇨

### ग्रंथिल कंद

ग्रंथिल कंद 111.11 ⇨

### ग्रंथिलता

उत्तग्रन 573.6

ग्रंथिलता 573.5 ⇨

### ग्रंथिल स्वरूप

सरकंडा 597.11

- ग्रंथि शिथिलत**  
ग्रंथि शिथिलत 574.11 ⇨
- ग्रंथि शिथिलन**  
ग्रंथि शिथिलन 574.2 ⇨
- ग्रंथि शिथिलत**  
ग्रंथि शिथिलत 574.11
- ग्रंथि सुदृढन**  
ग्रंथि सुदृढन 573.2 ⇨
- ग्रंथिहीन**  
ग्रंथिहीन 574.10 ⇨
- ग्रंथिहीनता**  
ग्रंथिहीनता 574.1 ⇨
- ग्रंथी**  
पुस्तक लेखक 448.4  
विद्वान् व्यक्ति 319.2  
सिख धर्माधिकारी 744.46
- ग्रथन**  
गैठार्ड 577.5  
जिल्दसाज़ी 418.10  
संग्रथन 573.1  
सूत्रबद्धन 573.3
- ग्रथित**  
आबद्ध 1013.22  
गुच्छित 667.14  
रथित 527.12  
संग्रथित 573.15  
सघन 81.15
- ग्रनाइट**  
ग्रनाइट 99.3 ⇨
- ग्रनाइट (ऑ)**  
ग्रनाइट 99.3
- ग्रफ़ाइट (ऑ)**  
सीसा 94.14
- ग्रसन**  
कसन 1013.4  
ग्रसन 181.9 ⇨
- ग्रहण 6.1  
घटुर्विध भोजन सूची 181.7  
दशन 181.21  
दबोच 868.6  
पकड़ 868.3  
पूर्ण भक्षण 181.11
- ग्रसन कर्ता**  
ग्रसन कर्ता 181.55 ⇨
- ग्रसना**  
ग्रसना 181.37 ⇨  
दंत प्रहार करना 918.24
- ग्रसित**  
उत्पीडित 391.28  
ग्रस्त 1013.24
- ग्रसिन्नु**  
ग्रसन कर्ता 181.55
- ग्रस्त**  
ग्रस्त 1013.24 ⇨  
ग्रहण ग्रस्त 6.7  
दंशित 181.65  
पासबद्ध 868.38  
पूर्ण भक्षित 181.63
- सहित 1006.2
- ग्रस्तता**  
ग्रस्तता 1013.2 ⇨
- ग्रस्त भूति**  
ग्रस्त भूति 1013.3 ⇨
- ग्रस्त होना**  
ग्रस्त होना 1013.16 ⇨
- ग्रस्ता**  
ग्रसन कर्ता 181.55  
भक्षक 181.53
- ग्रस्ति**  
बदीकरण 868.1
- ग्रह**  
ग्रह 7.2 ⇨  
ग्रहदोष 261.25  
ज्योतिष्क देवता 772.20  
धनुष मूठ 926.13  
नौ उपमान सूची 948.34  
पकड़ 868.3  
परिग्रह वृत्ति 359.9  
प्रारब्ध 260.1  
फलित ज्योतिष ग्रह 261.12  
राग स्वर प्रकार सूची 459.18  
राहु 6.4
- ग्रहकक्षा**  
पिंडकक्षा 4.1
- ग्रहगति**  
ग्रहगति 4.9 ⇨
- ग्रहण**  
अगीकरण 100.2  
अतग्रहण 1002.5  
अधिग्रहण 635.1  
आदान 637.1  
ग्रहण 6.1 ⇨  
चयन 1008.2  
ज्ञानेंद्रिय 268.5  
पकड़ 868.3  
परिग्रह वृत्ति 359.9  
पाणि 150.1  
समावेश 1002.1
- ग्रहण करना**  
अंदर लेना 1002.15  
आदान करना 637.3  
खाना पीना 181.31
- ग्रहण कर्ता**  
आदाता 637.7  
प्राप्ता 637.9
- ग्रहणकारिता**  
अधिग्रहणशीलता 635.2
- ग्रहण ग्रस्त**  
ग्रहण ग्रस्त 6.7 ⇨
- ग्रहण ग्रस्त करना**  
ग्रहण ग्रस्त करना 6.6 ⇨
- ग्रहण क्षितक**  
खगोल विज्ञानी 1.5
- ग्रहण शक्ति**  
बोध क्षमता 301.12
- ग्रहणशील**  
अतग्रही 1002.28  
अधिग्रहणशील 635.18
- ग्रहणी**  
अतिसार 216.14
- ग्रहदशा**  
अवनति काल 535.2  
ग्रहदशा 261.21 ⇨  
राशि 4.7  
संकट काल 909.7
- ग्रहदाय**  
ग्रहदाय 261.24 ⇨  
ग्रहानुसार संभावित आयु 229.3
- ग्रहदृष्टि**  
ग्रहदोष 261.25
- ग्रह देवता**  
ग्रहाधिपति 261.17
- ग्रहदोष**  
ग्रहदोष 261.25 ⇨
- ग्रहदोष शमन**  
ग्रहशांति 261.27
- ग्रह नायक**  
शनि ग्रह 7.8
- ग्रहपंचक योग**  
ग्रहपंचक योग 261.32 ⇨
- ग्रहपति**  
ग्रहाधिपति 261.17  
सूर्य 8.1
- ग्रह परिक्रमा काल**  
ग्रह परिक्रमा काल 5.5 ⇨
- ग्रहपीका**  
ग्रहबाधा 261.26
- ग्रह प्रतिदेवता**  
ग्रह प्रत्यधिपति 261.18
- ग्रह प्रत्यधिपति**  
ग्रह प्रत्यधिपति 261.18 ⇨
- ग्रहबाधा**  
ग्रहबाधा 261.26 ⇨
- ग्रहभोग**  
ग्रहभोग 4.10 ⇨
- ग्रहभोग काल**  
ग्रहदशा 261.21  
ग्रहभोग काल 4.11 ⇨
- ग्रहयुति**  
ग्रहयोग 261.28
- ग्रहयुद्ध**  
अंतरिक्ष युद्ध 905.14
- ग्रहयोग**  
ग्रहयोग 261.28 ⇨
- ग्रहराज**  
चंद्रमा 8.2
- ग्रह वर्ष**  
ग्रह परिक्रमा काल 5.5
- ग्रहवेष**  
खगोल वेध 1.8
- ग्रहवांति**  
ग्रहशांति 261.27 ⇨
- ग्रह संगम**  
ग्रहयोग 261.28
- ग्रह स्वर**  
ग्रह स्वर 459.19 ⇨
- ग्रहश्वार**  
उत्तर ध्रुव तारा 3.12
- ग्रहाधिपति**  
ग्रहाधिपति 261.17 ⇨
- ग्रहानुसार संभावित आयु**  
ग्रहानुसार संभावित आयु 229.3 ⇨
- ग्रहिल**  
भूत बाधाग्रस्त 759.21
- ग्रहीत**  
अतग्रहीत 1002.27  
प्राप्त 637.8  
समाविष्ट 1002.21
- ग्रहीता**  
आदाता 637.7
- ग्रहेश**  
ग्रहाधिपति 261.17
- ग्रंट (ऑ)**  
अनुदान 641.6
- ग्रंठील**  
भीमकाय 154.26  
वैभवशाली 226.15
- ग्रंट (संक्षिप्त बोलचाल)**  
अर्थिग 102.15
- ग्रंट (ऑ)**  
भूमि तल 612.3
- ग्रान**  
ग्राम 620.1 ⇨  
ग्राम 962.34 ⇨  
जनता 883.5  
संगीत स्वर 459.1  
सप्तक 459.3  
समूह 690.1
- ग्राम (ऑ)**  
ग्राम 962.34
- ग्राम: 10000**  
भिरयाग्राम 962.50
- ग्राम अध्यक्ष**  
ग्राम. मुखिया 892.6
- ग्रामकूट**  
ग्राम. मुखिया 892.6  
शुद्ध 731.28
- ग्राम क्षेत्र**  
ग्राम क्षेत्र 620.2 ⇨
- ग्रामणी**  
ग्राम: मुखिया 892.6  
ग्रामवासिनी 618.23  
दल नायक 852.6  
विष्णु 768.1
- ग्रामदेव**  
ग्राम देवता 772.27
- ग्राम देवता**  
ग्राम देवता 772.27 ⇨
- ग्राम निवासी**  
ग्रामवासी 618.22

## ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत  
ग्राम पंचायत 892.2 ⇨  
ग्रामपति  
ग्राम: मुखिया 892.6  
ग्राम परिक्षेत्र  
ग्राम परिक्षेत्र 820.3 ⇨  
ग्राम: पहरेदार  
ग्राम: पहरेदार 908.12 ⇨  
ग्राम भूमि  
ग्राम भूमि 552.2 ⇨  
ग्राम: मुखिया  
ग्राम: मुखिया 892.6 ⇨  
ग्रामवाणी  
गाँव. पुरोहित 744.13  
ग्राम बंधु  
ग्रामवासिनी 816.23  
ग्रामवासिनी  
ग्रामवासिनी 616.23 ⇨  
ग्रामवासी  
ग्रामवासी 616.22 ⇨  
ग्राम सभा  
ग्राम पंचायत 892.2  
ग्राम समूह  
परगना 34.8  
ग्रामसिंह  
कुत्ता 127.71  
ग्राम सुधार  
ग्राम सुधार आंदोलन 904.8  
ग्राम सुधार आंदोलन  
ग्राम सुधार आंदोलन 904.6 ⇨  
ग्राम हासक  
जीजा 724.35  
ग्रामांचल  
ग्राम क्षेत्र 620.2  
ग्रामांत  
ग्राम परिक्षेत्र 820.3  
परिसर मार्ग 1063.22  
ग्रामाभ्यक्ष  
ग्राम: मुखिया 892.6  
ग्रामीण  
ग्रामवासी 616.22  
ग्रामीय 620.20  
ग्रामीय  
ग्रामीय 620.20 ⇨  
ग्रामेय  
ग्राम्यतापूर्ण 734.18  
ग्रामेयी  
वेश्या 807.5  
ग्रामोन्नोन्न  
ग्रामोन्नोन्न 300.14 ⇨  
ग्रामोन्नोन्न (अं)  
ग्रामोन्नोन्न 300.14  
ग्रामोन्नोन्न प्लेवर (अं)  
ग्रामोन्नोन्न 300.14  
ग्रामोन्नोन्न: रिकार्ड  
ग्रामोन्नोन्न: रिकार्ड 300.16 ⇨  
ग्रामोन्नोन्न रिकार्ड (अं)  
ग्रामोन्नोन्न: रिकार्ड 300.16

ग्रामोन्नोन्न: सुई  
ग्रामोन्नोन्न: सुई 300.15 ⇨  
ग्राम्य  
ग्रामवासी 616.22  
ग्रामीय 620.20  
ग्राम्यतापूर्ण 734.18  
पालतु 127.95  
ग्राम (भाषा)  
ग्राम्य (भाषा) 421.34 ⇨  
ग्राम्य गीत  
लोक गीत 457.28  
ग्राम्यता  
ग्राम्यता 734.6 ⇨  
भदेसपन 403.3  
ग्राम्यतापूर्ण  
ग्राम्यतापूर्ण 734.18 ⇨  
ग्राम्य दोष  
ग्राम्य भाषा 421.26  
ग्राम्यदोष पूर्ण  
ग्राम्य (भाषा) 421.34  
ग्राम्य पद्य  
पालतु पद्य 127.3  
ग्राम्य भाषा  
ग्राम्य भाषा 421.26 ⇨  
ग्राम्य नवगुरिका  
सिंघाड़ा मछली 125.14  
ग्राम्या  
ग्रामवासिनी 816.23  
तुलसी 13.9  
ग्राम्याभ्य  
गधा 127.30  
ग्रावा  
चट्टानी 99.17  
ग्रास  
आहार पदार्थ 186.1  
ग्रहण 6.1  
ग्रास 181.26 ⇨  
ग्रास (अं)  
घास 11.6  
ग्रासी  
प्रसन कर्ता 181.55  
ग्राह  
ग्रहण 6.1  
घड़ियाल 123.5  
जकड़न 392.10  
पकड़ 868.3  
बारी 70.8  
ग्राहक  
आदाता 637.7  
क्रेता 860.3  
ग्राहक 660.13 ⇨  
प्राप्ता 637.9  
ग्राहक आकर्षण: अतिरिक्त माल  
ऋत्क अर्कमः अतिरिक्त कल 661.9 ⇨  
ग्राहकता  
ग्राहकता 660.12 ⇨  
ग्राहक बनना  
क्रय करना 660.14

ग्राही  
अंतग्राही 1002.28  
प्रसन कर्ता 181.55  
स्वार्थ साधक 712.17  
ग्राह्य  
आहार्य 197.22  
ज्ञेय 305.38  
बोध्य 518.17  
रोचक 400.12  
ग्राह्यता  
आहार्यता 197.12  
ज्ञेयता 305.20  
ग्रिल (अं)  
कटहरा 805.2  
ग्रिलिंग  
ग्रिलिंग 195.24 ⇨  
ग्रिलिंग (अं)  
ग्रिलिंग 195.24  
• ग्रीक  
क्लिष्ट भाषा 421.22  
ग्रीक स्वर्ग  
ग्रीक स्वर्ग 259.4 ⇨  
ग्रीज़ पेंट (अं)  
नाट्य मेकअप 464.39  
ग्रीटिंग (अं)  
अभिवादन 1060.1  
ग्रीनरूम ?  
ग्रीनरूम 464.41 ⇨  
ग्रीनरूम (अं)  
ग्रीनरूम 464.41  
प्रसाधन कक्ष 614.13  
ग्रीन लाइट (अं)  
हरी बत्ती 1067.17  
ग्रीन हाउस  
ग्रीन हाउस 551.3 ⇨  
ग्रीन हाउस (अं)  
ग्रीन हाउस 551.3  
ग्रीनिच रेखा  
ग्रीनिच रेखा 10.16 ⇨  
ग्रीव  
ग्रीवा 145.1  
ग्रीवा  
ग्रीवा 145.1 ⇨  
ग्रीवा: आंतरिक भाग  
कंठ 145.9  
ग्रीवा: कंधे की ओर बाह्य भाग  
कंधर 145.2  
ग्रीवा: पीठ की ओर वाला बाह्य भा  
गरदन 145.5  
ग्रीवास्थि  
हंसली 133.11  
ग्रीवी  
ऊँट 127.27  
ग्रीवीय  
ग्रीवीय 145.17 ⇨  
ग्रीव्य  
ग्रीव्य काल 53.6  
सुहानी गरमी 53.10

ग्रीव्य (उपेक्ष आवाह)  
छ: ऋतु सूची 51.15  
ग्रीव्य: अनुभूति  
ग्रीव्य: अनुभूति 53.7 ⇨  
ग्रीव्य अवकाश  
ग्रीव्य अवकाश 494.18 ⇨  
ग्रीव्य काल  
ग्रीव्य काल 53.6 ⇨  
ग्रीव्य कालीन  
ग्रीव्य कालीन 53.17 ⇨  
वसंत कालीन 52.3  
सूती 568.15  
ग्रीव्यीय  
ग्रीव्य कालीन 53.17  
ग्रुप (अं)  
मंडली 891.5  
समूह 890.1  
ग्रुप प्रोमोशन (अं)  
दल उठाना 1081.15  
ग्रुपबाज़  
गुटबाज़ 885.39  
ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (अं)  
सहकारी भवन 602.26  
ग्रुस  
एक सी चवालीस: समुदाय 687.20  
ग्रूव (अं)  
खोस 970.10  
ग्रेनेड  
ग्रेनेड 927.13 ⇨  
ग्रेनेड (अं)  
ग्रेनेड 927.13  
ग्रे मीटर (अं)  
भेजा 140.10  
ग्रीचुवटी  
ग्रीचुवटी 643.30 ⇨  
ग्रीजुरट (अं)  
स्नातक उपाधि 322.28  
ग्रैव  
ग्रीवीय 145.17  
ग्रैव्य  
ग्रीवीय 145.17  
ग्रैव्यक  
कंठहार 228.26  
गला: पट्टा 555.14  
ग्रैव्य  
ग्रीव्य कालीन 53.17  
ग्रीव्य प्रीफिटेड (अं)  
कुल लाभ 646.4  
ग्लब (अं)  
दस्ताना 588.2  
ग्लाइड करना  
ग्लाइडिंग करना 1061.46  
ग्लाइडर  
ग्लाइडर 1074.7 ⇨  
ग्लाइडर (अं)  
ग्लाइडर 1074.7  
ग्लाइडिंग कर्ता 1081.52

**ग्लाइडर गुलेल**  
 ग्लाइडर विच 1074.8  
**ग्लाइडर बोट (अ)**  
 जल विस्फी नीका 1072.4  
**ग्लाइडर विच**  
 ग्लाइडर विच 1074.8 ⇨  
**ग्लाइडर विच (अ)**  
 ग्लाइडर विच 1074.8  
**ग्लाइडिंग**  
 ग्लाइडिंग 1081.21 ⇨  
**ग्लाइडिंग (अ)**  
 ग्लाइडिंग 1081.21  
**ग्लाइडिंग करना**  
 ग्लाइडिंग करना 1081.46 ⇨  
**ग्लाइडिंग कर्ता**  
 ग्लाइडिंग कर्ता 1081.52 ⇨  
**ग्लानि**  
 उत्साहहीनता 492.1  
 खिन्नता 380.2  
 परचाताप 380.4  
**ग्लानिपूर्ण**  
 खिन्न 380.10  
**ग्लास (अ)**  
 काँच 283.14  
 काँच भरतन 680.2  
 गिलास 684.9  
**ग्लास प्लेट (अ)**  
 काँच पटल 990.4  
**ग्लासवेअर (अ)**  
 काँच भरतन 680.2  
**ग्लुकोस**  
 ग्लुकोस 179.10 ⇨  
**ग्लुकोस (अ)**  
 ग्लुकोस 179.10  
**ग्लेज़िंग**  
 ग्लेज़िंग 218.11 ⇨  
**ग्लेज़िंग (अ)**  
 ग्लेज़िंग 218.11  
**ग्लेशियर (अ)**  
 हिमनद 90.6  
**ग्लैमर की दुनिया**  
 स्टारडम 464.4  
**ग्लोब (अ)**  
 पृथ्वी अड्डाकार मानचित्र 10.18  
 पृथ्वी: गोला 10.3  
 लैप ग्लोब 285.26  
**ग्लो**  
 चंद्रमा 8.2  
 यज्ञ मांस 206.15  
**ग्लोसी (प्रिंट)**  
 ग्लोसी (प्रिंट) 405.7 ⇨  
**ग्लोसी (प्रिंट) (अ)**  
 ग्लोसी (प्रिंट) 405.7  
**ग्वार**  
 ग्वार 189.18 ⇨  
 साग सब्जी सूची 189.4  
**ग्वाला**  
 गाय बैस: घरवाहा 556.9

गोप 771.31  
 घरवाहा [घरवाहन] 556.8  
 दूध विक्रेता 554.5  
**ग्वाला [ग्वालिन]**  
 दोग्धा 554.23  
**ग्वालिन**  
 गोपी 771.32  
 नवकन्या सूची 774.20  
**ग्वारा (अ)**  
 वाटर कलर 290.7  
**ग्वैठा**  
 गोबर: उपला 11C.14

**घ**

**घँघरी**  
 छलनी 560.21  
**घँघोलना**  
 घँघोलना 1008.22 ⇨  
**घंट**  
 घंटा 461.27  
**घंट काँच्य**  
 घंट धातु 94.4  
**घंट धातु**  
 घंट धातु 94.4 ⇨  
**घंटनाद**  
 टनटन 296.10  
**घंटा**  
 अध्ययन घंटा 322.7  
 घंटा 50.8 ⇨  
 घंटा 461.27 ⇨  
 घड़ी समय 50.3  
 टनटन 296.10  
 दीवार घड़ी 50.25  
 प्रालंब सूची 1024.4  
 मगल वाद्य सूची 796.12  
 सकट संकेत 909.9  
 समय घोष 50.1  
 साअत 49.12  
**घंटा: 1/60**  
 मिनट 50.9  
**घंटा: 24**  
 अहोरात्र 46.10  
**घंटा: 3**  
 पहर 49.1  
**घंटा काँच्य**  
 घंट धातु 94.4  
**घंटा घड़ियाल**  
 घंटा 461.27  
**घंटाघर**  
 घंटाघर 50.26 ⇨  
**घंटाताड**  
 घंटा वादक 461.28  
**घंटा ध्वनि**  
 टनटन 296.10  
**घंटा पथ**  
 मुख्य सड़क 1063.34  
 राजमार्ग 1063.39

**घंटा बजना**  
 समय घोष होना 50.29  
**घंटा मार्ग**  
 मुख्य सड़क 1063.34  
**घंटाल**  
 अति अनुभवी 303.18  
**घंटा वादक**  
 घंटा वादक 461.28 ⇨  
 समय घोषक 50.30  
**घंटिका**  
 उपजिह्वा 143.8  
 घुंघरू 461.35  
 रहुँट घड़िया 19.14  
**घंटी**  
 आरंभ संकेत सूची 521.8  
 आवाहन. घंटी 461.32  
 कंठ मणि 145.6  
 काकल 145.10  
 घंटी 461.30 ⇨  
 घुंघरू 461.35  
 लुटिया 684.16  
 शिव 767.1  
 संकट संकेत 909.9  
 समय सूचना 50.2  
**घंटों में**  
 विलंबतः 495.16  
**घई**  
 मध्य स्थान 33.6  
**घग्घर**  
 सरयू 20.21  
**घट**  
 घटम 461.34  
 घड़ा 679.1  
 छिद्र मुख 271.15  
 मठ 745.7  
 शरीर 139.1  
 हृदय 146.5  
**घटक**  
 कार्यान्वय कर्ता 505.28  
 ंडेया 545.5  
 मठ 745.7  
 मिलाने वाला 389.9  
 योजक चिह्न 425.37  
 रासायनिक तत्त्व 78.7  
 वंशानुकीर्तक 727.16  
 विवाह घटक 801.1  
 सघटक 545.3  
**घटकता**  
 वैयक्तिकता 689.2  
**घटक बिखर जाना**  
 विघटित होना 544.12  
**घट कर रहना**  
 चरितार्थ होना 438.5  
**घटकर्ण**  
 कुंभकर्ण 784.6  
**घटक समूह**  
 समुदाय 687.1

**घटकार**  
 ईश्वर 764.1  
 कुंभकार 680.34  
**घटकारिता**  
 कुंभ कर्म 680.33  
**घटकृत**  
 गका [गकी] 545.27  
**घट छंड**  
 मूवभांडांश 77.6  
**घटघटवासी**  
 ईश्वर 764.1  
**घटता [घटती]**  
 अचनतिशील 535.6  
 अचरोह क्रमिक 991.23  
 हासशील 531.12  
**घटता क्रम**  
 अचरोह क्रम 991.4  
**घटता बढ़ता [घटती बढ़ती]**  
 परिवर्तनशील 532.17  
**घटती**  
 अपमान 855.1  
 अचनति 535.1  
 हास 531.3  
**घटते**  
 अचरोहत 991.30  
**घटते बढ़ते**  
 कालांतर में 60.16  
**घटन**  
 अस्तित्व धारण 246.2  
 कम होना क्रिया 980.3  
 गढ़ाई 545.4  
 सघटन 545.1  
 संघटना 545.2  
 सयोजन 1010.10  
**घटनशील**  
 घटनशील 75.12 ⇨  
**घटना**  
 अपराध घटना 861.2  
 अचनति होना 535.4  
 कम होना 980.12  
 क्षीणकाय होना 159.7  
 घटना 75.1 ⇨  
 घटित होना 75.8  
 चरितार्थ होना 438.5  
 तथ्य 820.14  
 परिणाम होना 510.6  
 प्रभाव कम होना 511.11  
 मूल्य कम होना 664.25  
 सघटना 545.2  
 हास होना 531.6  
**घटना क्रम**  
 कथानक 466.11  
 काल क्रम 991.8  
 घटना चक्र 75.4  
**घटना चक्र**  
 घटना चक्र 75.4 ⇨  
**घटनात्मक**  
 तथ्यात्मक 820.24

## घटनात्मकता

**घटनात्मकता**  
तथ्यात्मकता 820 15  
**घटनापूर्णता**  
नाटकीयता 466 2  
**घटना पूर्व संख्या**  
पूर्व संख्या 80.9  
**घटनाप्रधान**  
नाटकीय 466.19  
**घटना प्रधानता**  
नाटकीयता 466 2  
**घटना बढ़ना**  
परिवर्तन होना 532 13  
**घटनामूलक**  
घटनामूलक 75.10 ⇨  
**घटना वर्णन**  
वृत्तांत 449.14  
**घटनावली**  
कथानक 466.11  
**घटना शृंखला**  
घटना चक्र 75 4  
**घटना संयोजन**  
कार्यक्रम 520 4  
**घटना स्थल**  
घटना स्थल 75 5 ⇨  
हत्या स्थल 251 6  
**घटनाहीन**  
घटनाहीन 75 16 ⇨  
**घटनीय**  
घटनीय 75 13 ⇨  
**घटः नौका**  
घट नौका 1072.17 ⇨  
**घट बड़**  
अल्पाधिक 941 9  
उत्थल पुथल 532 4  
उन्नति अवनति 532 3  
परिवर्तन 532 1  
**घटम**  
घटम 461.34 ⇨  
**घटवार**  
घटवारिया 1080 26  
घाट पड़ा 744.6  
तट कर संग्राहक 647.36  
**घटवारिया**  
घटवारिया 1080 26 ⇨  
घाट पंजा 744 6  
नाविक 1080 21  
**घटवाल**  
घाट पड़ा 744 6  
**घटवालिया**  
घटवारिया 1080 26  
घाट. पंजा 744 6  
तट कर संग्राहक 647.36  
नाविक 1080 21  
**घटबाह**  
घटवारिया 1080 26  
**घट स्थान**  
कुम्हरहा 680.35

**घटहा**  
घटवारिया 1080.26  
नौका सूची 1072.3  
**घटा**  
घटा प्रविष्टि 632 6  
मेघ 55.1  
**घटा [घटी]**  
अल्प 942 13  
अवनत 535.5  
कटौती कृत 664.36  
घटाया [घटाई] 954 14  
घटित 75 11  
मंदित (प्रभाव) 511.20  
संक्षिप्त 980 24  
**घटा उठना**  
मेघ समूह आना 55.12  
**घटा उमड़ना**  
मेघ समूह आना 55 12  
**घटा कर**  
साराशत 449 33  
**घटा घनघोर**  
काला मेघ 55 3  
**घटा धिरना**  
मेघ समूह आना 55 12  
**घटा छाना**  
मेघ समूह आना 55.12  
**घटाटोप**  
काला मेघ 55.3  
तौंगा बन्धी रिकशा: छत 611.15  
शब्दाडंबर 421 28  
**घटान**  
घटान कर्म 954 6  
लघुकरण 980 4  
**घटान करना**  
घटान करना 954.12 ⇨  
**घटान कर्म**  
घटान कर्म 954.6 ⇨  
**घटान: छोटी संख्या**  
घटान छोटी संख्या 954.8 ⇨  
**घटान फल**  
घटान फल 954 9 ⇨  
**घटान: बड़ी संख्या**  
घटान: बड़ी संख्या 954.7 ⇨  
**घटाना**  
कटौती करना 664.27  
कम करना 980.13  
घटान करना 954 12  
**घटाना बढ़ाना**  
परिवर्तन करना 532.14  
**घटा प्रविष्टि**  
घटा प्रविष्टि 632.6 ⇨  
**घटा बाझी**  
घटान फल 954 9  
**घटाया [घटाई]**  
घटाया [घटाई] 954.14 ⇨  
लघुकृत 980.23  
**घटिका**  
घटी 50.12

जलघड़ी 50 17  
**घटिका विज्ञान**  
समय विज्ञान 41.8  
**घटिका विज्ञानी**  
समय विज्ञानी 41.9  
**घटित**  
गढ़ा [गड़ी] 545.27  
घटित 75.11 ⇨  
चरितार्थ 438.8  
मंथित 468.34  
रचित 527 12  
सघन 81.15  
**घटित करना**  
मंथित करना 468 32  
**घटित न होना**  
घटित न होना 75.9 ⇨  
**घटित होना**  
घटित होना 75.8 ⇨  
चरितार्थ होना 438 5  
**घटिया**  
अधम 840 4  
अवमानक 957 9  
खोटा [खोटी] 98 13  
दुर्जन 818 5  
निकृष्ट 314.5  
**घटिया कवि**  
घटिया कवि 448.16 ⇨  
**घटिया कविता**  
काव्यहीन कविता 451.17  
**घटियापन**  
अधमता 840 1  
निकृष्टतमता 314.3  
निकृष्टता 314 1  
**घटी**  
घटी 50.12 ⇨  
रहैट: घड़िया 19.14  
हानि 646.7  
**घटी: 1/80**  
पल 50.14  
**घटी: 2**  
मुहूर्त 49.10  
**घटी: 2.5**  
साअत 49.12  
**घटी यंत्र**  
घड़ी 50.16  
जलघड़ी 50.17  
रहैट 19.13  
**घट्टका**  
घट्टकच 771.54  
**घट्टोतरी**  
झास 531.3  
**घट्टोत्कच**  
घट्टोत्कच 771.54 ⇨  
राक्षस सूची 784.4  
**घट्टोर**  
नर भेड़ 127 25  
**घटौली**  
कटौती 664.17

**घट्ट**  
तट कर चौकी 647.20  
संघटना 545.2  
**घट्ट कुटी**  
चुगी चौकी 647 16  
तट कर चौकी 647.20  
**घट्टन**  
गढ़ाई 545.4  
घर्षण 541.1  
**घट्टा**  
लीक 1063 16  
**घट्टित**  
गढ़ा [गड़ी] 545.27  
संघटित 545.26  
**घट्टब**  
घटनीय 75 13  
रघनीय 527.13  
**घट्टबला**  
गढ़नीयता 545.15  
**घट्टब**  
गढ़नीय 545 30  
**घट्टघड**  
घट्टघडाहट 297 31  
**घट्टघडाहट**  
घट्टघडाहट 297.31  
**घट्टन**  
रघना विन्यास 527.8  
**घट्टनई**  
घट्ट: नौका 1072 17  
नौका सूची 1072.3  
**घट्टना**  
कल्पना से बनाना 308 12  
गढ़ना 545 22  
**घट्टनेल**  
घट्ट: नौका 1072.17  
**घट्टा**  
उदर 148.6  
घट्टम 461.34  
घट्टा 679.1 ⇨  
तौंद 148.2  
**घट्टा [घड़ी]**  
गढ़ा [गड़ी] 545 27  
**घट्टाई**  
गढ़ाई 545.4  
**घट्टा: पंजा**  
घट्टा: पंजा 680.27 ⇨  
**घट्टियाँ गिनना**  
आतुर प्रतीक्षा करना 1057.6  
मरणासन्न होना 249.21  
**घट्टिया**  
गैजिया 684.8  
मधुमक्खी छत्ता 603.5  
रहैट: घड़िया 19.14  
**घट्टियाल**  
घट्टा 481.27  
घट्टियाल 123.5 ⇨  
दीवार घड़ी 50.25  
समय घोष 50.1

**घड़ियाली**

घटा 461 27  
 घटा वादक 461 28  
 पहरेदार 908 9  
**घड़ी**  
 अल्प काल 38 4  
 अवसर 70 1  
 काल 36 1  
 घटी 50 12  
 घड़ी 50 16 ⇨  
 तह 975.15  
**घड़ी करना**  
 तह करना 975 24  
**घड़ी क्षेत्र**  
 समय क्षेत्र 50 4  
**घड़ी घड़ी**  
 प्रति क्षण 1049 19  
**घड़ी देखना**  
 आतुर प्रतीक्षा करना 1057 6  
**घड़ी दो घड़ी**  
 अल्प काल 38 4  
**घड़ी समय**  
 घड़ी समय 50.3 ⇨  
**घड़ी: सूई**  
 घड़ी सूई 50 27 ⇨  
**घड़ोला**  
 छोटा घड़ा 679 2  
**घड़ीची**  
 घड़ीची 596 11 ⇨  
**घटियाना**  
 गोपन करना 824 14  
 घात लगाना 914 12  
**घन**  
 घंटा 461 27  
 घनफल 955 7  
 घनाकार 977 25  
 घनाकृति 977 17  
 टीहा 596 12  
 ठोस 269 23  
 तीन आयाम 964 9  
 त्रिआयामीय 964 24  
 बड़ा हथौड़ा 559 40  
 मेघ 55 1  
 सघन 81 15  
**घन अपहरण**  
 गबन 865 7  
**घन अवस्था**  
 सघन अवस्था 79 8  
**घन आकृति**  
 घनाकृति 977 17  
**घनक**  
 गड़गड़ाहट 297 10  
**घनकना**  
 घोर ध्वनि करना 294 17  
 ध्वनि करना 294 15  
**घन कोर्ड**  
 इंद्रधनुष 55 8

**घन गरज**

मेघ गड़गड़ाहट 297 11  
**घनघटा**  
 काला मेघ 55.3  
 मेघ समूह 55 2  
**घनघन**  
 गड़गड़ाहट 297 10  
 घोर ध्वनि 294 6  
 टनटन 296 10  
**घनघनाना**  
 प्रतिध्वनि होना 294.16  
**घनघनहाट**  
 गड़गड़ाहट 297 10  
 मेघ गड़गड़ाहट 297 11  
**घनघोर**  
 गहन 1004 16  
 भयानक 395 25  
**घनघोर वर्षा**  
 तीव्र वर्षा 54 11  
**घनता**  
 ठोसपन 269 8  
 त्रिआयामता 964 11  
 सघन अवस्था 79 8  
 सघनता 81 2  
 सघनता 1004 5  
**घनताल**  
 करताल 461 25  
 घातक 126 39  
**घनत्व**  
 सघनता 1004 5  
**घनत्वपूर्ण**  
 त्रिआयामीय 964 24  
**घनत्व माप**  
 आयतन माप 959 44  
**घनत्वयुक्त**  
 सघन 1004 15  
**घनन**  
 घनफल कर्म 955 6  
 सघनन 81 3  
**घननाद**  
 मेघ गड़गड़ाहट 297 11  
 मेघनाद 784 10  
**घनपद**  
 घनमूल 955 8  
**घनप्रिय**  
 मोर 126 68  
**घनफल**  
 घनफल 955.7 ⇨  
**घनफल कर्म**  
 घनफल कर्म 955 6 ⇨  
**घन माप एकक**  
 घन माप एकक 958.5 ⇨  
**घनमितीय**  
 त्रिआयामीय 964 24  
**घन मीटर**  
 घन माप एकक 958 5  
 घन मीटर 959.48 ⇨

**घनमूल**

घनमूल 955.8 ⇨  
**घन बल्लरी**  
 मेघ विद्युत 55.9  
**घन बाघ**  
 ताल बाघ 461.13  
 बाघयत्र प्रकार सूची 461 12  
**घनबाह**  
 वायु 85 1  
**घन रयाम**  
 काला मेघ 55 3  
 कृष्ण 771 1  
 गहरा काला 289.38  
**घनसार**  
 कपूर 274 14  
 जल 88 1  
**घन स्टीयर**  
 घन मीटर 959.48  
**घनांजनी**  
 दुर्गा 776 7  
**घनांत**  
 शरद काल 53 4  
**घनांधकार**  
 गहन अधकार 286 2  
**घना [घनी]**  
 अत्यधिक 944.7  
 अधिक 944 5  
 गहन 1004 16  
 घनिष्ठ 704 27  
 जनाकीर्ण 616 29  
 ठुँसा [ठुँसी] 1004 14  
 रहस्यपूर्ण 823 13  
 सघन 81 15  
 सघन 1004 15  
 सघन बुना 576 30  
**घनाकार**  
 घनाकार 977.25 ⇨  
**घनाकारता**  
 त्रिआयामता 964 11  
**घनाकृति**  
 घनाकृति 977 17 ⇨  
**घनागम**  
 वर्षा काल 54 1  
**घनाघन**  
 मस्त हाथी 127 41  
 वर्षा मेघ 55 5  
**घनापन**  
 गहनता 1004 6  
 सघनता 1004.5  
**घनाग्रय**  
 आकारा 2 1  
**घनित**  
 सघन 81.15  
**घनिष्ठ**  
 गहन 1004 16  
 घनिष्ठ 704.27 ⇨  
 प्रगाढ़ 81 14  
 सघन 81 15

**सघन 1004 15**

**घनिष्ठता**  
 घनिष्ठता 704.13 ⇨  
 प्रगाढ़ता 81.1  
**घनिष्ठता (वे.)**  
 घनिष्ठ संबंध 715.4  
**घनिष्ठ मित्र**  
 घनिष्ठ मित्र 704.14 ⇨  
**घनिष्ठ संबंध**  
 घनिष्ठ संबंध 715.4 ⇨  
**घनिष्ठ होना**  
 घनिष्ठ होना 704.18 ⇨  
**घनीभूत**  
 प्रगाढ़ 81 14  
**घनी सर्दी**  
 कड़ी सर्दी 53.2  
**घनेतर**  
 तरल 80 5  
**घनेरा [घनेरी]**  
 अत्यधिक 944 7  
 अधिक 944 5  
 गहन 1004 16  
 सघन 81 15  
**घनोपल**  
 ओला 54 15  
**घपला**  
 घोटाला 865 8  
**घबराना**  
 आश्चर्य होना 379 5  
 उद्दिग्ध होना 377 7  
 धिता करना 377 8  
 भयभीत होना 395 13  
**घबराया [घबराई]**  
 उद्दिग्ध 377 13  
 धिताग्रस्त 377.10  
**घबराहट**  
 आशंका 377 1  
 उद्दिग्धता 377 4  
 धिता 377 2  
 भय 395.1  
**घर्मेड**  
 अकड़ 734 9  
 दर्प 858 5  
 पदाधिकारिता 652 3  
 शेखी 842.5  
 हेकड़ी 734 10  
**घर्मेडी**  
 शेखीखोर 842.16  
**घर्मेडी [घर्मेडिन]**  
 दर्पी 858.13  
**घर्मेडीपन**  
 दर्प 858.5  
 श्रेष्ठ ग्रंथि 352.7  
**घमकना**  
 मुक्का लगाना 918.28  
**घमघम**  
 घमघमाहट 297.13  
 ढमढम 298.11

## घमघमाना

घमघमाना  
मुक्ता लगाना 918.28

घमघमाहट  
घमघमाहट 297.13 ⇨

घमर  
डमरुम 296.11

घमरील  
ऊघम 294.9  
कोलाहल 294.8

घमसान  
भीषण युद्ध 905.7

घमाका  
घमाका 296.21

घमायम  
हाथापाई 905.23

घमासान युद्ध  
भीषण युद्ध 905.7

घमोरी  
मरोड़ी 185.10

घर  
आला 871.18  
एकक परिवार 726.5  
कमरा 814.1

कोष्ठक घिहन 425.43  
खींचा 970.10

खाना 871.20  
गंतव्य स्थान 1100.2

गृह 801.1  
गोटी: घर 479.2

घर 475.29 ⇨  
घोखटा 804.9

घिद्र 271.6  
जन्म कुंडली: स्थान 281.8

डिब्बा 676.1  
परिवहन स्थल 1069.1

परिवार जन 726.9  
पैतृक घर 601.4

बिल 603.7  
भंडार 670.3

भुजाकृति 969.2  
वंश 727.1

संग्रहालय 869.8  
स्वदेश 34.12

घर उजड़ना  
विधुर होना 804.25

घर का उजाला  
सपूत 718.5

घर का थिराता  
सपूत 718.5

घर का नाम  
घर का नाम 315.5 ⇨

घर का भेदिया  
अंतरंग रहस्य ज्ञाता 822.24

घर का भेदी  
अंतरंग रहस्य ज्ञाता 822.24

राष्ट्र द्रोही 827.21  
विभीषण 784.21

घर का रास्ता  
सहज कार्य 518.2

घर की (बोलचाल)  
पत्नी 803.6

घर के कपड़े  
अनीपचारिक वेश 589.15

घर के लोग  
परिवार जन 726.9

घरगाईं  
पुत्रहीन विधवा 804.17

घर गिरस्ती  
गृहस्थी 235.2

गृहस्थी पालन 235.6  
बीवी बच्चे 726.11

घर गृहस्थी  
गृहस्थी 235.2

घरघर  
घरघराहट 297.14

घर घराना  
कुटुंब 726.7

वंश 727.1  
घरघराहट 297.14 ⇨

घरघराहट  
घरघराहट 297.14 ⇨

घरघाट  
पता 444.13

पता निर्देश 444.14  
घर बलाना

गृहस्थी पालना 235.9  
घर जैवाई

घर जमाई 724.23  
घर जमाई 724.23 ⇨

घरजाया [घरजाई]  
गृहज दास 651.14

घरजोत  
रूदकाश्ल कृषि 553.19

घरक घरक  
धरुधराहट 297.31

घर त्यागना  
संन्यास लेना 233.9

घर दामाद  
घर जमाई 724.23

घरद्वार  
अचल संपत्ति 624.8

एकक परिवार 726.5  
गृहस्थी 235.2

घरनी  
गृहस्थिन 235.4

पत्नी 803.6  
घरबत्ता

जार 806.5  
घरबत्ता [घरबत्ती]

गृहस्थीयुक्त 235.12  
घर बत्ताना

गृहस्थाग्रम में आना 235.10  
विवाह करना 799.45

घरबत्ती  
रखेली 806.7

सुहागन 803.13

घरबार  
एकक परिवार 728.5

गृहस्थी 235.2  
बीवी बच्चे 726.11

घरबार बाला  
गृहस्थ 235.3

परिवारयुक्त 726.14  
घरबारी

गृहस्थीयुक्त 235.12  
घरबालक

गृहस्थीयुक्त 235.12  
घर भरना

समृद्ध होना 826.10  
घर झोटा [घर झोटी]

गृहागत 1100.7  
घरवा

घरवा 800.13 ⇨  
छोटा भवन 802.9

घर बाला  
गृहपति 235.5

गृहस्थ 235.3  
पति 803.5

घर बाली  
गृहस्थिन 235.4

पत्नी 803.6  
घर वाले

घराती 801.6  
परिवार जन 726.9

बीवी बच्चे 726.11  
घर से (बोलचाल)

पत्नी 803.6  
घराती

घराती 801.6 ⇨  
घराना

कला शैली 397.14  
कुल 726.8

राजवंश 727.5  
वंश 727.1

संगीत घराना 457.10  
घरिया

संगलन पात्र सूची 565.17  
साँचा सूची 565.20

घरुआ  
डिबिया 676.4

घरुई  
लुटिया 684.16

घरु  
गृहीय 601.13

पारिवारिक 726.13  
घरु नाम

घर का नाम 315.5  
घरलू

गृहीय 601.13  
पारिवारिक 726.13

पालतू 127.95  
घरलू उद्योग

गृह उद्योग 557.6

घरलू जानवर  
पालतू पशु 127.3

घरलू नीकर  
आवासीय सेवक 651.4

घरलू नीकरानी  
आवासीय सेविका 651.5

घरलूपन  
पारिवारिकता 726.2

घरलू रास्ता  
निजी मार्ग 1083.7

घरौदा 480.9 ⇨  
नीड़ 603.3

घरौना  
घरौदा 480.9

घरघर  
उल्लू 126.14

घटा 461.27  
घरघर 298.19 ⇨

बलख 126.56  
घरघरा

घंटी 461.30  
घरघरी

घंटी 461.30  
घरम

धूप 287.8  
घरम जाल

स्वेद 215.3  
घरमोध

कठमुल्ला 343.22  
घरघर

घरघराहट 297.14  
घरघुं

घरघराहट 297.14  
घरांटा

खरंटा 266.9  
घरघ

घरघर्ष 541.1  
घरघर्क

घरघर्क 541.11 ⇨  
घरघर्ण

घरघर्ण 541.1 ⇨  
बर्निशिंग 218.13

संघर्ष 905.1  
घरघित

घरघित 541.10 ⇨  
घरघित करना

घरघित करना 541.5 ⇨  
घरघी

घरघी 541.11  
घरलुआ

ग्राहक आकर्षण अतिस्तिक माल 661.9  
घरस

राक्षस सूची 784.4  
घरसलुवा [घरसलुवी]

घरसियारा 556.12  
घरसिटना

घरसिटना 1051.27



**घसियारा**  
 घसियारा 556.12 ⇨  
**घसियारा [घसियारिन]**  
 घसियारा 556.12  
**घसीट**  
 कुलेख: उपमान सूची 412.13  
**घसीटना**  
 कर्षित करना 1051.22  
 कुलेखन करना 412.39  
**घसीटा**  
 कुलेख: उपमान सूची 412.13  
**घसीटा [घसीटी]**  
 घिसटा [घिसटी] 1051.38  
**घसीटू**  
 कर्षण कर्ता 1051.37  
**घस्वर**  
 अत्याहारी 182.15  
**घौघरा**  
 घाघरा 586.9  
 लहंगा 586.12  
 लोबिया 189.33  
**घाटिक**  
 घंटा वादक 461.28  
**घौटी**  
 कंठ मणि 145.6  
 काकल 145.10  
**घाई**  
 मध्य स्थान 33.6  
**घाऊघप**  
 छीन 635.7  
 दौबबाज़ 819.19  
**घाघ**  
 उल्लू 126.14  
 दौबबाज़ 819.19  
**घाघरा**  
 घाघरा 586.9 ⇨  
 लहंगा 586.12  
 सरयू 20.21  
**घाघरा पलटन**  
 स्त्री सेना 932.6  
**घाघस**  
 बटेर 126.55  
**घाधी**  
 मछली जाल सूची 1013.14  
**घाट**  
 गरदन 145.5  
 गरेबान 585.65  
 गाध स्थल 984.6  
 घाट 25.20 ⇨  
 ढलवाँ तट 25.17  
 तालाब, सीढ़ियाँ 18.13  
 दिशा में 29.35  
 घोबीघाट 220.7  
 नीका घाट 1069.12  
 पनघट 19.9  
 पर्वत ढाल 18.12  
 पार्श्व 997.1  
 लहंगा 586.12

स्नानघाट 221.21  
**घाट अथ्यक**  
 घटवारिया 1080.26  
**घाट कप्पान**  
 घटवारिया 1080.26  
**घाट नीका**  
 घाट नीका 1072.26 ⇨  
**घाट: पंडा**  
 घाट: पंडा 744.6 ⇨  
**घाट पथ**  
 बौध पथ 1066.11  
**घाट: पैड़ी**  
 स्नानघाट: पैड़ी 613.5  
**घाटवाल**  
 घटवारिया 1080.26  
 तट कर संग्राहक 647.36  
**घाटा**  
 गरदन 145.5  
 नीका घाट 1069.12  
 हानि 646.7  
**घाटिया**  
 घाट पंडा 744.6  
 तट कर संग्राहक 647.36  
**घाटी**  
 घाटी 16.16 ⇨  
 दर्रा 16.15  
**घाण**  
 घान 686.4  
**घात**  
 अहित 712.2  
 आक्रमण 914.3  
 उपयुक्त अवसर 70.3  
 गुणन फल 955.4  
 घात प्रतीक्षा 914.1  
 छल 827.7  
 दौवपैघ 819.11  
 प्रहार 918.1  
 बाण 926.16  
 मारण 251.1  
 विश्वासघात 827.4  
 हिंसा 251.15  
**घातक**  
 अहितकारी 712.15  
 मारक 251.24  
 विधाक्त 177.9  
**घातकता**  
 नाशकता 531.2  
 मारकता 251.2  
**घातक प्रहार**  
 मारक प्रहार 918.6  
**घातक मार**  
 मारक प्रहार 918.6  
**घात कर्ता**  
 घातकी 914.17  
**घातक शस्त्र**  
 घातक शस्त्र 922.3 ⇨  
**घातकी**  
 घातकी 914.17 ⇨

**घात गड्डा**  
 घात गड्डा 252.25 ⇨  
**घात: गड्डा**  
 घात गड्डा 252.25  
**घात प्रतिघात**  
 प्रहार प्रतिप्रहार 918.3  
 हिंसा प्रतिहिंसा 251.14  
**घात प्रतीक्षा**  
 घात प्रतीक्षा 914.1 ⇨  
**घात मंच**  
 आखेट मंच 252.23  
**घात में बैठना**  
 घात लगाना 914.12  
**घात में रहना**  
 घात लगाना 914.12  
**घात लगाना**  
 घात लगाना 914.12 ⇨  
**घात स्थान**  
 घात स्थान 914.2 ⇨  
**घाति**  
 पक्षी पारा 1013.11  
**घातिया**  
 घातकी 914.17  
 मारने वाला 251.26  
**घाती**  
 नाशक 531.8  
 मारक 251.24  
 मारने वाला 251.26  
 विश्वासघाती 827.19  
**घातुक**  
 घातकी 914.17  
**घातोन्माद**  
 आत्मपीडनोन्माद 353.18  
**घात्य**  
 हतव्य 251.21  
**घान**  
 घान 686.4 ⇨  
**घानी**  
 कोल्हू 83.7  
 पान 686.4  
**घाम**  
 ग्रीष्म, अनुभूति 53.7  
 धूप 287.8  
**घामक**  
 कामघोर 490.10  
 मूर्ख 302.7  
 स्फूर्तिहीन 492.14  
**घायल**  
 आहत 168.6  
 घायल 168.7 ⇨  
**घार**  
 कटान 15.6  
**घाल**  
 शक आकर्षण: अतिरिक्त माल 661.9  
**घालना**  
 प्रक्षेपण करना 1052.14  
 प्रहार करना 918.21  
 भराई करना 1004.8

**घालमेल**  
 सम्मिश्रितता 1008.13  
**घाव**  
 व्रण 167.12  
**घाव पट्टी**  
 व्रण पट्टी 174.16  
**घास**  
 घास 11.6 ⇨  
 घास मैदान 11.5  
**घास कटाई**  
 घास कटाई 556.11 ⇨  
**घास घोड़ा**  
 शत्रुता: उपमान सूची 706.22  
**घास ठेंका गड्डा**  
 घास से ठेंका गड्डा 252.26  
**घासपात**  
 खर पतवार 548.32  
**घासपात निकालना**  
 निराना 548.45  
**घास भूसा**  
 चारा 556.4  
**घास भूषी**  
 चारा 556.4  
**घास मैदान**  
 घास मैदान 11.5 ⇨  
**घासलेट**  
 मिट्टी: तेल 110.20  
**घासलेटी**  
 निकृष्ट 314.5  
 नाश रथित 527.19  
**घास: सूखा बंडल**  
 खुखड़ी 675.13  
**घास से ठेंका गड्डा**  
 घास से ठेंका गड्डा 252.26 ⇨  
**घिजीडा**  
 घिजीडा 679.26 ⇨  
**घिघी**  
 घिघी 386.6 ⇨  
 हिचकी 386.13  
**घिघियाना**  
 घिघियाना 386.20 ⇨  
**घिचपिच**  
 अव्ययस्थित समूह 690.4  
**घिन**  
 घृणा 370.2  
 मिथलाहट 215.27  
**घिनाना**  
 घृणित होना 370.4  
**घिनीना [घिनीनी]**  
 घृणित 370.6  
**घिनी**  
 घुमेर 264.6  
**घियौका**  
 घिजीडा 679.26  
**घिया**  
 घिया 189.19 ⇨  
**घिरना**  
 मँडराना 1033.18

## धिरनी

मेघ समूह आना 55.12  
मेघाच्छन्न होना 55.13  
व्याप्त होना 981.8

### धिरनी

धिरनी 1077.39 ⇌  
नाभि छल्ला 1077.5

### धिरनी: गङ्गा

गरारी दौता 1077.38

### धिरा [धिरि]

कुहरित 90.18  
धिरा [धिरि] 604.23 ⇌  
घेराबंद 914.23  
परिसीमित 1001.35  
मेघाच्छन्न 55.14

### धिराई

घेराई 604.8

### धिरापन

परिसीमितता 1001.10  
मेघाच्छन्नता 55.7

### धिरायैद

सङ्घर्ष 273.6

### धिराव

धिराव 902.14 ⇌  
घेराई 604.8  
घेराबंदी 914.11  
परिसीमितता 1001.10  
बाहरी घेरा 972.7

### धिरी

धिरनी 1077.39

### धिरी आकृति

भुजाकृति 969.2

### धिरी खाड़ी

धिरी खाड़ी 24.7 ⇌

### धिरी

धिरनी 1077.39

### धिरीदार चक्का

धिरनी 1077.39

### धिसकन

फिसलन 1084.15

### धिसधिस

किरकिराहट 297.5  
धिसधिसाहट 297.15  
टालमटोल 495.3

### धिसधिसाहट

किरकिराहट 297.5  
धिसधिसाहट 297.15 ⇌

### धिसधिसिया

तकरारी 708.14

### धिसट

धिसधिसाहट 297.15  
धिसट 1051.9 ⇌  
लैंगड़ी चाल 1084.19

### धिसटते धिसटते

उगमगाते 1084.53

### धिसटन

फिसलन 1084.15  
रगड़ 167.11  
लैंगड़ी चाल 1084.19

### धिसटना

धिसटना 1051.27 ⇌  
फिसलना 1084.37  
लैंगड़ना 1084.40

### धिसटा [धिसटी]

धिसटा [धिसटी] 1051.38 ⇌

### धिसन

घर्षण 541.1  
बर्निशिंग 218.13  
रगड़ 167.11

### धिसनहार

घर्षक 541.11

### धिसना

अभ्यस्त होना 303.12  
कसोटी पर कसना 566.15  
घर्षित करना 541.5  
घोटना 540.11  
धिकनाना 269.11  
जर्जर होना 536.6  
बरतन मोजना 218.28  
रेतना 542.11

### धिसा [धिसी]

घर्षित 541.10  
जर्जर 536.11

### धिसाई

अति परिभ्रम 493.3  
घर्षण 541.1  
घुटाई 540.3  
बरतन मोजाई 218.9  
बर्निशिंग 218.13  
मार्जन 218.8  
रेगाई 542.2

### धिसा पिटा [धिसी पिटी]

जीर्ण शीर्ण 536.12  
रूढिवादी 343.24

### धिसा रास्ता

लीक 1063.16

### धिसैया

घर्षक 541.11

### धिससा

घर्षण 541.1  
रगड़ 167.11

### धीं धीं करना

धिधियाना 386.20

### धी

धी 196.7 ⇌  
स्निग्धव्य सूची 196.2

### धी तेल

परचून सूची 186.9  
मोयन 196.3  
स्निग्धव्य 196.1

### धी तेल कुप्पा

धी तेल कुप्पा 678.8 ⇌

### धी तेल युक्त

स्निग्ध 197.16

### धी तेल युक्त आहार

स्निग्ध आहार 197.6

### धी तेल हीन

अस्निग्ध 197.17

### धी मौडना

मोयन लगाना 196.21

### धीयाकस

धीयाकस 560.12 ⇌

### धीयाकस से कसना

धीयाकस से कसना 540.10 ⇌

### धीया पत्थर

सिलखड़ी 99.12

### धी लगाना

घुपड़ना 197.15

### धुंधरी

तुला बीज 962.42

### धुंधटा

धुंधट 591.3

### धुंधराला

धुंधराला 137.25 ⇌

### धुंधराला [धुंधराली]

धुंधराला 137.25

### धुंधराले केश

धुंधराले केश 137.13 ⇌

### धुंधर ध्वनि

छमछम 296.8

### धुंधरु

धुंधरु 461.35 ⇌

पाजेब 228.18

### धुंधरुबंद

नर्तकी वेश्या 807.7

### धुंटा [धुंटी]

धुंटा [धुंटी] 197.34 ⇌

### धुंजी

धुंजी 977.5 ⇌

घरखा धुंजी 562.9

घुसनी 684.2

बटन 571.15

शल्क कद 111.12

स्तनाग्र 146.9

### धुंजीदार

कदाकार 976.20

### धुंपन

धुंपन 270.1

### धुंपा [धुंपी]

धुंपा [धुंपी] 270.17

### धुआ

धुआ 115.9

### धुईयाँ

अरवी 189.5

### धुग्धी

फ्राखता 126.52

### धुग्घू

उल्लू 126.14

### धुटकी

धुंटा 207.3

### धुटन

श्वासावरोध 245.9

### धुटना

धुटना 149.14 ⇌

श्वासावरोध होना 245.18  
साटाग दंडवतः अंग सूची 1080.9

### धुटना: गोल अस्थि

धुटना: गोल अस्थि 133.19 ⇌

### धुटना घुआई

घरण स्पर्श 1060.2

### धुटना: जोड़

धुटना. गोल अस्थि 133.19

### धुटना-टखना: पैर

टांग 149.15

### धुटने टेकना

युद्ध समर्पण करना 916.17

### धुटना के बल

धुटरियों 1083.30

### धुटना के बल चलना

धुटरियों चलना 1083.21

### धुटना पर चलना

धुटरियों चलना 1083.21

### धुटना

निकर 588.2

पजमिया 587.9

### धुटना घाघरा,

धुटना घाघरा 586.10 ⇌

### धुटरिया चाल

धुटरिया चाल 1083.5 ⇌

### धुटरियों

धुटरियों 1083.30 ⇌

### धुटरियों चलना

धुटरियों चलना 1083.21 ⇌

### धुटरून

धुटरियों 1083.30

### धुटरुवन

धुटरियों 1083.30

### धुटरू

धुटना 149.14

### धुटा [धुटी]

अति अनुभवी 303.18

कुटिल 818.7

केश मुंडित 224.13

धिकना [धिकनी] 269.22

दौवबाज़ 819.19

मुंडित 798.44

श्वासावरुद्ध 245.25

संकीर्ण 980.29

### धुटाई

इस्तिरी कर्म 220.18

केश मुंडन 224.5

धुटाई 540.3 ⇌

रटंत 356.4

### धुटापन

संकीर्णता 980.11

### धुटा स्वर

संवृत उच्चारण 411.6

### धुट्टी

धुट्टी 176.15 ⇌

**घुट्टी बनाना**  
घोटना 540.11  
**घुड़क**  
घुड़की 373.6  
धमकी 373.12  
**घुड़कना**  
घुड़कना 373.20 ⇨  
**घुड़की**  
घुड़की 373.6 ⇨  
धमकी 373.12  
**घुड़की बेना**  
घुड़कना 373.20  
**घुड़घड़ी**  
अश्वारोहण 1082.5  
घुड़घड़ी 800.14 ⇨  
**घुड़दीक**  
घुड़दीक 1082.8 ⇨  
घुड़दीक 484.4 ⇨  
धूल सूची 481.2  
**घुड़दीक आरोही**  
घुड़दीक आरोही 1082.9 ⇨  
**घुड़दीकनी**  
घुड़दीक मैदान 1063.28  
**घुड़दीक मैदान**  
घुड़दीक मैदान 1063.28 ⇨  
**घुड़दीकिया**  
घुड़दीक आरोही 1082.9  
**घुड़बहली**  
रहड़ी 1071.41  
**घुड़मक्खी**  
कीट सूची 122.12  
**घुड़सवार**  
अश्व सैनिक 934.8  
अश्वारोही 1082.6  
**घुड़सवारः पदाश्रय**  
घुड़सवार पदाश्रय 596.19 ⇨  
**घुड़सवार सेना**  
अश्व सेना 932.11  
**घुड़सवारी**  
अश्वारोहण 1082.5  
**घुड़शाल**  
अश्वशाला 603.20  
**घुड़सेना**  
अश्व सेना 932.11  
**घुण**  
घुण 122.19  
**घुन**  
कीट सूची 122.12  
घुन 122.19 ⇨  
**घुना [घुनी]**  
मीनाबलंबी 429.23  
**घुण**  
गहन (अंधकार) 286.16  
क्लैक आउट 286.3  
**घुण अंधकार**  
गहन अंधकार 286.2  
**घुणतू**  
खानाबदोश 1090.44

चक्रणशील 1033.18  
पर्यटनप्रिय 1090.41  
**घुमंतूपन**  
खानाबदोश 1090.5  
**घुमक्कड़**  
चलिष्णु 1090.42  
पर्यटनप्रिय 1090.41  
**घुमक्कड़ी**  
पर्यटन प्रियता 1090.1  
**घुमटा**  
घुमेर 264.6  
**घुमड़ना**  
घुम घुम कर व्याप्त होना 981.9  
मैंडराना 1033.16  
मेघाच्छन्न होना 55.13  
**घुमरी**  
परिक्रमा 1033.3  
भैवर 1040.24  
**घुमाई**  
परिक्रामण 1033.11  
**घुमाना**  
पेघ कसना 1016.41  
मरोड़ना 975.22  
**घुमा फिरा कर कथन**  
अपदेश 435.15  
**घुमाया [घुमाई]**  
मरोड़ा [मरोड़ी] 975.30  
**घुमाव**  
अलबेट 975.10  
चक्रावृत्ति 71.4  
धुरी चक्रण 1033.1  
परिक्रमा 1033.3  
मैंडराव 1033.12  
मोड़ 974.10  
लपेट 575.1  
वक्रता 974.1  
वलय 975.9  
**घुमावदार**  
चकिल 973.10  
वक्र 974.16  
सर्पिल 974.19  
**घुमावदार रेखा**  
घुमावदार रेखा 968.14 ⇨  
**घुमेर**  
घुमेर 264.6 ⇨  
**घुमेर आना**  
घुमेर आना 264.18 ⇨  
**घुरघुर**  
घरघराहट 297.14  
**घुरघुराना**  
गुर्रांनी 373.19  
**घुरघुराहट**  
घरघराहट 297.14  
श्वसासवरोध 245.9  
**घुरहरी**  
परुपथ 1063.48  
**घुलन**  
घुलन 1008.14 ⇨

**घुलना**  
क्षीणकाय होना 159.7  
घनिष्ठ होना 704.18  
घुलना 1008.21 ⇨  
पुथित होना 189.12  
सम्मिश्रित होना 1008.19  
**घुलना मिलना**  
सम्मिश्रित होना 1008.19  
**घुल मिल कर**  
सामजस्यपूर्वक 702.8  
**घुला [घुली]**  
घुला [घुली] 1008.28 ⇨  
सम्मिश्रित 1008.28  
**घुलाना**  
संगतित करना 565.24  
**घुला मिला [घुली मिली]**  
घनिष्ठ 704.27  
सम्मिश्रित 1008.28  
**घुलामिलापन**  
सम्मिश्रितता 1008.13  
**घुलावट**  
घुलन 1008.14  
**घुपित**  
ध्वनित 294.21  
वादित 461.105  
**घुपड़**  
जोत गाड़ी 1071.28  
बैलगाड़ी 1071.42  
**घुसकन**  
घुसन 1094.13  
**घुसकना**  
घुसना 1094.22  
**घुसन**  
गहन 1016.3  
घुसन 1094.13 ⇨  
घुपन 270.1  
प्रवेशन 1094.3  
सीमातिक्रमण 1001.27  
**घुसना**  
अंदर होना 999.8  
घुसना 1094.22 ⇨  
घुपना 270.11  
परिचय बढ़ाना 704.17  
पैठना 1094.23  
समाविष्ट होना 1002.12  
सीमातिक्रमण करना 1001.32  
**घुसपैठ**  
घुसपैठ 1094.15 ⇨  
**घुसपैठिया**  
आक्रांता 914.20  
घुसपैठिया 1094.16 ⇨  
**घुसा [घुसी]**  
गहा [गही] 1016.48  
घुसा [घुसी] 1094.29 ⇨  
पैठा [पैठी] 1094.30  
प्रविष्ट 1094.24  
**घुसाई**  
गहाई 1016.4

**घुसाई** 1051.14 ⇨  
**घुसाना**  
अंतर्क्षिप्त करना 1002.18  
गहाना 1016.38  
घुसेकना 1051.29  
घोपना 270.14  
प्रविष्ट करना 1094.19  
समाविष्ट करना 1002.13  
**घुसेक**  
घुसाई 1051.14  
**घुसेकना**  
घुसेकना 1051.29 ⇨  
घोपना 270.14  
**घुषट**  
अवगुंठन 591.2  
घुषट 591.3 ⇨  
घोका: आँख परवा 555.27  
परदा दीवार 607.5  
महलः बरामदा 615.7  
**घुषट करना**  
अवगुंठन करना 591.9  
**घुषटवाली**  
अंतःपुर वासिनी 591.11  
**घुषट वाली**  
अवगुंठनवती 591.12  
**घुषर**  
केसः घुषर 137.8  
**घुषरवार**  
घुषराला 137.25  
**घुषरवा**  
घुषरू 461.35  
**घुषर वाला**  
घुषराला 137.25  
**घुषर वाले बाल**  
घुषराले केस 137.13  
**घुँट**  
कहा 213.15  
घुँट 207.3 ⇨  
**घुँट भर**  
अत्यल्पतः 942.24  
**घुँट भरना**  
पीना 207.16  
मद्यपान करना 209.40  
**घुँटी**  
घुट्टी 176.15  
**घुँसा**  
मुक्का 150.7  
मुक्का 918.17  
मुट्टी 150.8  
**घुँसाघुसी**  
घुँसाघुसी 905.20  
**घुँसाघुसी**  
घुँसाघुसी 905.20 ⇨  
बोक्सिंग 486.5  
**घुँसेबाज़**  
बोक्सर 486.8  
**घुँसेबाज़ी**  
घुँसाघुसी 905.20

## घूआ

बीक्सिंग 486.5

## घूआ

कीट सूची 122.12

घूआ 115.9 ⇨

## घूकारि

कौआ 126.22

## घूघ

उल्लू 126.14

लौह शिर कवच 921.6

## घूम

एक चक्रावृत्ति 1033.13

घूम 586.28 ⇨

घेर 972.6

परिक्रमा 1033.3

पेघ घूड़ी 1016.20

लपेट 575.1

## घूमघुमाव

चक्रिलता 973.1

## घूम घूम कर व्याप्त होना

घूम घूम कर व्याप्त होना 981.9 ⇨

## घूमटा

घुटना 149.14

## घूमता [घूमती]

उच्चक्रिल 973.12

चक्रित 1033.17

परिक्रमणशील 1033.20

पर्यटनशील 1080.45

## घूमता बरवाड़ा

चरखी कपाट 609.6

## घूमती कुरसी

रिवीलिंग घेअर 595.26

## घूमना

आवागारगर्दी करना 1090.39

घूमना 1033.14 ⇨

दिशा बदलना 1098.18

परिक्रमा करना 1033.15

पर्यटन करना 1090.40

मैंडराना 1033.16

विचरना 1085.10

## घूमना फिरना

पर्यटन करना 1090.40

## घूमने वाला

चक्रणशील 1033.18

## घूमने वाली अलमारी

घूमने वाली अलमारी 671.6 ⇨

## घूना [घूनी]

चक्रित 1033.17

मरोडा [मरोड़ी] 975.30

## घूर

कूड़ेखाना 218.20

ताक 284.14

## घूरा

घूरा 218.19 ⇨

## घूराघारी

ताक 284.14

## घूर्ण

एक चक्रावृत्ति 1033.13

## घूर्णक

चक्रणशील 1033.18

## घूर्णक यंत्र

घूर्णित्र 1077.32

## घूर्णन

धुरी चक्रण 1033.1

पृथ्वी आवर्तन 5.1

## घूर्णन बिंदु

चक्रण बिंदु 1033.8

## घूर्णवात

चक्रवात 85.10

## घूर्णा

चक्रवात 85.10

## घूर्णायक

चक्रायक 1033.19

## घूर्णि

एक चक्रावृत्ति 1033.13

## घूर्णित

चक्रित 1033.17

## घूर्णित जल

भेंवर 1040.24

## घूर्णित होना

घूमना 1033.14

## घूर्णित्र

घूर्णित्र 1077.32 ⇨

रोटेटर 1078.18

## घूस

घूस 127.62 ⇨

रिश्त 865.9

## घूसखोर

रिश्तखोर 865.26

## घूसखोरी

रिश्तखोरी 865.10

## घूणा

घूणा 370.2 ⇨

बीभत्स रस 455.14

## घूणा अभिव्यक्ति

धृत्कार 855.4

## घूणा कर्ता

घूणा कर्ता 370.7 ⇨

## घूणास्पद

घृणित 370.6

## घृणित

अप्रिय 370.5

घृणित 370.6 ⇨

## घृणित होना

घृणित होना 370.4 ⇨

## घृणी

घूणा कर्ता 370.7

## घृणोत्पादक

घृणित 370.6

## घृत

घी 196.7

संसिक्त 1008.29

सिंचित 548.55

## घृत पात्र

घिआँडा 679.26

## घृत सागर

सप्त सागर सूची 24.22

## घृतसोम (घ)

क्रोमोसोम 130.2

## घृताबी

अप्सरा सूची 782.3

## घृताधि

अग्नि 106.1

## घृताशी

विष्णु 788.1

## घंटला [घंटली]

सूअर. शिशु 230.20

## घंटा [घंटी]

सूअर. शिशु 230.20

## घंटुआ

कठ मणि 145.6

## घेर

घेर 972.6 ⇨

प्रसार 979.3

फ्रोक. घेर 585.74

विस्तार 981.2

## घेरघार

एकत्रण 667.1

## घेरना

घेरना 604.22 ⇨

घेराबंदी करना 914.16

मैंडराना 1033.16

व्याप्त होना 981.8

हाँका करना 252.29

## घेरने वाला

व्यापक 981.12

## घेरा

अहाता 604.3

घिराव 902.14

घेर 972.6

घेरा 604.7 ⇨

घेराबंदी 914.11

चक्र 1077.31

थाला 551.23

नेमि 1077.8

परकोटा 604.11

परिक्रमा मार्ग 1063.25

परिधि अंतर्गत स्थान 972.5

परिधि माप 958.14

प्रसार 979.3

फ्रोक. घेर 585.74

बाहरी घेरा 972.7

रिंग 482.18

विस्तार 981.2

स्कर्ट 586.13

## घेरा [घेरी]

घिरा [घिरी] 604.23

## घेराई

घेराई 604.8 ⇨

## घेरा डालना

घेराबंदी करना 914.16

हाँका करना 252.29

## घेरा डालने वाला

घेरा डालने वाला 914.24 ⇨

## घेराबंद

घेराबंद 914.23 ⇨

परिसीमित 1001.35

## घेराबंदी

घिराव 802.14

घेराबंदी 914.11 ⇨

परिसीमन 1001.9

## घेराबंदी करना

घेराबंदी करना 914.16 ⇨

## घेराव

आयतन 966.3

घेराबंदी 914.11

परिसीमन 1001.9

प्रसार 979.3

विस्तार 981.2

## घेवर

घेवर 203.10 ⇨

## घेवरना

घुपड़ना 197.15

## घेसला

रोट 202.19

## घैया

प्रहार 918.1

## घोंघ

मध्य स्थान 33.6

सोहन विडिया 126.75

## घोंघा

घोघा 124.16 ⇨

## घोंघा बसंत

मूर्ख व्यक्ति 302.2

## घोंघू

वज्रधी 302.9

## घोंट

घुटाई 540.3

## घोंटना

घोटना 540.11

## घोंप

घोंप 270.5 ⇨

## घोंपना

घोंपना 270.14 ⇨

## घोंसला

नीड़ 603.3

## घोखू

रट्टू 356.5

## घोमी

फ्राखता 126.52

## घोपी

कबल: लबादा 585.20

## घोटक

घोडा 127.35

## घोटना

केरा मूडना 224.12

घोटना 540.11 ⇨

धिरुनाना 289.11

रटना 356.14

**घोटा**  
 नलवा 684.3  
 मुंडन संस्कार 798 18  
 रटत 356.4  
**घोटा लगाना**  
 रटना 356 14  
**घोटाला**  
 घोटाला 865 8 ⇨  
**घोटाला करना**  
 घोटाला करना 865.18 ⇨  
**घोटालेबाज़**  
 घोटालेबाज़ 865.24 ⇨  
**घोटिका**  
 मादा घोड़ा 127 36  
**घोटी**  
 मादा घोड़ा 127 36  
**घोटुल**  
 समूह भवन 602 17  
**घोटू**  
 रट्टू 356 5  
**घोड़ा**  
 घोड़ा 127 35 ⇨  
 द्विग 1046 10  
 बंदूक घोड़ा 927 7  
 सेना चार अंग सूची 932 10  
**घोड़ा: आँख परदा**  
 घोड़ा आँख परदा 555.27 ⇨  
**घोड़ा गागी**  
 घोड़ा गाड़ी 1071 36 ⇨  
 रहड़ी 1071 41  
**घोड़ा: चादर**  
 घोड़ा चादर 593 26 ⇨  
**घोड़ा: चाल**  
 अश्वगति 1084 23  
**घोड़ा झुला**  
 चक्र झुला 1034 9  
**घोड़ा दाना धैला**  
 तोबड़ा 673 7  
**घोड़ा बैल: पीठ की गद्दी**  
 कंधेली 595.49  
**घोड़ा: बोली**  
 हिनहिनाहट 298.29  
**घोड़ा रहड़ी**  
 रहड़ी 1071.41  
**घोड़ा: शिशु**  
 घोड़ा शिशु 230 16 ⇨  
**घोड़ा समूह**  
 घोड़ा समूह 690 12 ⇨  
**घोड़िया**  
 दीवार: चूँटी 1016.17  
**घोड़ी**  
 घुड़घड़ी 800.14  
 घोड़ी 485.14 ⇨  
 घोड़ी गीत 796.23  
 वरयात्रा 800 43  
 सुहाग घोड़ी गीत 796.30  
**घोड़ी गीत**  
 घोड़ी गीत 798.23 ⇨

**घोड़ीक्रौंद**  
 घोड़ीक्रौंद 476.9 ⇨  
**घोणस**  
 सर्प सूची 127 16  
**घोणी**  
 सूअर 127 81  
**घोमरा**  
 जलपक्षी सूची 126 7  
**घोर**  
 अति आविष्ट 371 9  
 अत्यधिक 944 7  
 अदम्य 519 28  
 अप्रदेश्य 519 24  
 अवेध्य 519 26  
 गहन (अधकार) 286 16  
 प्रगाढ़ 81 14  
 प्रबल 487 24  
 भयानक 395 25  
**घोर अपमान**  
 थूत्कार 855 4  
**घोरघुष्य**  
 कौसा 94 2  
 पीतल 94 10  
**घोरता**  
 विकरालता 154.8  
**घोरदर्शन**  
 विकराल 154 23  
**घोर ध्वनि**  
 घोर ध्वनि 294 6 ⇨  
**घोर ध्वनिक**  
 घोर ध्वनिक 294.28 ⇨  
**घोर ध्वनि करना**  
 घोर ध्वनि करना 294.17 ⇨  
**घोर ध्वनित**  
 घोर ध्वनित 294 29 ⇨  
**घोर परीक्षा**  
 कठिन परीक्षा 322 12  
**घोर युद्ध**  
 भीषण युद्ध 905.7  
**घोररूप**  
 शिव 767 1  
**घोर सम्बन्ध**  
 मताधता 343 11  
**घोरा**  
 टोड़ा 611 23  
 रात 48 1  
**घोराकृति**  
 भयानक 395 25  
 विकराल 154 23  
**घोल**  
 घोल 1008.9 ⇨  
 निक्करघर 176 23  
**घोला**  
 भाँग गोली 210 2  
**घोलुवा**  
 भाजी. रसा 201.24  
**घोष**  
 गोप 771.31

**घोर ध्वनि** 294.6  
**घोषणा** 441 10  
 घरवाहा [घरवाहन] 558 8  
 ध्वनि 294 1  
 शिव 767 1  
**घोषक**  
 घोषक 441.23 ⇨  
 नीलाम व्यवसायी 659 9  
**घोषणा**  
 घोषणा 441.10 ⇨  
 मुनादी 441 11  
**घोषणा करना**  
 घोषणा करना 441 15 ⇨  
 मुनादी करना 441 16  
**घोषणा कर्ता**  
 घोषक 441 23  
**घोषयिता**  
 घोषक 441 23  
**घोषयित्नु**  
 घोषक 441 23  
**घोषयती**  
 गीणा 461 77  
**घोष यिक्रय**  
 नीलाम 659 8  
**घोषातकी**  
 धिया 189 19  
**घोषित**  
 घोषित 441.22 ⇨  
**घोषित करना**  
 घोषणा करना 441 15  
**घोषिततः**  
 भ्रगुप्तत 822 34  
**घासी**  
 दूध विक्रेता 554 5  
**घौंद**  
 फल गुच्छ 686 18  
**घौर**  
 फल गुच्छ 686 18  
**घौरा**  
 फल गुच्छ 686 18  
**-घ्न**  
 मारक 251 24  
**-घ्न [-घ्नी]**  
 मारने वाला 251 26  
**घ्राण**  
 नाक 142 3  
**घ्राणक**  
 घ्राण कर्ता 273 12  
**घ्राण कर्ता**  
 घ्राण कर्ता 273.12 ⇨  
**घ्राणन**  
 आघ्राणन 273.2  
**घ्राण विट**  
 नासिका मल 215 17  
**घ्राण शक्ति**  
 घ्राणानुभूति 273.1  
**घ्राणानुभूति**  
 घ्राणानुभूति 273.1 ⇨

**घ्राणिक**  
 घ्राणीय 273 10  
**घ्राणित**  
 आघ्राणित 273 11  
**घ्राणीय**  
 घ्राणीय 273 10 ⇨  
**घ्राणद्विय**  
 घ्राणानुभूति 273 1  
**घ्राता**  
 घ्राण कर्ता 273 12

## घृ

**घृक्रमण**  
 विचरण 1085.1  
 विचरण मार्ग 1063.17  
**घृग**  
 उफ 461 38  
**घृगा [घृगी]**  
 उत्तम 313 11  
 धिकित्सित 171 19  
 सज्जन 817 7  
 स्वच्छ 218.33  
 स्वस्थ 161 5  
**घृगा करना**  
 धिकित्सा करना 171 16  
**घृगुल**  
 दबोच 868 6  
 नियंत्रण 899 10  
 पजा 150 23  
**घृगुल में लेना**  
 दबोचना 868 31  
**घृगुल से निकलना**  
 त्राण पलायित होना 916 12  
**घृगेर**  
 छिछली टोकरी 677.6  
 फूल डलिया 677 11  
**घृगेरा**  
 छिछली टोकरी 677.6  
 फूल डलिया 677.11  
**घृगेरिक**  
 डलिया 677 10  
**घृगेरिका**  
 डलिया 677.10  
**घृगेरी**  
 छिछली टोकरी 677 6  
 फूल डलिया 677 11  
 मशक 679.38  
**घृगेली**  
 छिछली टोकरी 677.6  
 फूल डलिया 677.11  
 मशक 679 38  
**घृचरी**  
 हुडदग 294 13  
**घृचरीक**  
 भ्रमर 122.33  
**घृचल**  
 अतिशय विलासी 383.21

## चंचल [चंचला]

अस्थिर 1037.22  
 अस्थिरचित 355.7  
 ऊँची लहरों वाला 1040.33  
 बंचल 860.24 ⇨  
 चलिष्णु 1090.42  
 जंगम 1037.18  
 तरंगित 1040.30  
 ध्यानहीन 331.13  
 वायु 85.1  
**चंचल [चंचला]**  
 चंचल 860.24  
**चंचल चितवन**  
 चंचल चितवन 284.5 ⇨  
**चंचलचित**  
 चंचल 860.24  
**चंचलचितता**  
 चंचलता 860.8  
**चंचल छाया**  
 फ़िल्म 472.1  
**चंचलता**  
 चंचलता 860.8 ⇨  
 चंचलता 1037.3  
**चंचलता (बै.)**  
 अस्थिरता 1037.8  
**चंचलता विद्याना**  
 चंचलता विद्याना 860.16 ⇨  
**चंचलनयन**  
 चंचलनयन 158.22 ⇨  
**चंचलनयना**  
 चंचलनयना 158.23 ⇨  
**चंचल नैना**  
 चंचल चितवन 284.5  
**चंचला**  
 मेघ विद्युत 55.9  
 लक्ष्मी 775.1  
 व्यभिचारिणी 806.11  
**चंचा पुरुष**  
 कृषि रक्षक पुतला 550.3  
 हीआ 785.8  
**चंचु**  
 चक्रचूदर 127.66  
 चोच 143.5  
 नल टोटी 19.28  
 विमानाग्र 1074.21  
**चंचुका**  
 चोच 143.5  
**चंचुकी**  
 चोचदार कटोरा 683.2  
**चंचु प्रवेश**  
 अपूर्ण पठन 321.30  
**चंचू**  
 पटसन 568.3  
**चंच**  
 अति अनुभवी 303.18  
 कुटिल 818.7  
 दौबबाज़ 819.19  
 बुद्धिमान 301.21

**चंच**  
 अति आविष्ट 371.9  
 अति उष्ण 104.20  
 असुर सूची 783.8  
 उष्ण 104.18  
 क्रोधी 373.29  
 छतना कृत 798.47  
 घरपरा [घरपरी] 278.12  
 तप्त 104.22  
 प्रबल 487.24  
**चंचकाली**  
 काली 776.3  
**चंचघंटा**  
 दुर्गा 776.7  
**चंचता**  
 अति आवेश 371.2  
 तप्तता 104.3  
 तीक्ष्णता 270.6  
 प्रबलता 487.6  
**चंच नायिका**  
 नायिका सूची 774.46  
**चंच मुंड**  
 असुरादि जोड़ी सूची 783.4  
**चंचरश्मि**  
 सूर्य 8.1  
**चंचवती**  
 नायिका सूची 774.46  
**चंचवात**  
 औंधी 85.5  
**चंच विक्रम**  
 वीर 396.6  
**चंचा**  
 दुर्गा 776.7  
 नायिका सूची 774.46  
**चंचाग्नि**  
 योग अग्नि 756.15  
**चंचाल**  
 अत्याचारी 835.13  
 निर्दय 835.10  
**चंचाल पक्षी**  
 कोआ 126.22  
**चंचालिका**  
 घाडालनी 254.11  
 दुर्गा 776.7  
**चंचावल**  
 पहरदार 908.9  
 पृष्ठ रक्षक सेना 933.4  
**चंचिका**  
 कालिका 776.2  
 दुर्गा मूर्ति सूची 746.4  
 नवकुमारी सूची 774.29  
 पार्वती 776.9  
 योग माया 771.82  
**चंची**  
 कर्कशा 838.11  
 दुर्गा 776.7  
 वीर स्त्री 396.3  
 वीर स्त्री उपमान 396.4

**चंडीगढ़**  
 चंडीगढ़ 28.27 ⇨  
 चंडीगढ़: राजधानी 28.28  
 पंजाब: राजधानी 28.47  
**चंडीगढ़**  
 हरियाणा: राजधानी 28.71  
**चंडीगढ़: राजधानी**  
 चंडीगढ़: राजधानी 28.28 ⇨  
**चंडी चढ़ना**  
 अति आविष्ट होना 371.8  
**चंडीपति**  
 शिव 767.1  
**चंडी यज्ञ**  
 यज्ञ सूची 753.2  
**चंडीश**  
 शिव 767.1  
**चंडू**  
 चंडू 212.5 ⇨  
**चंडूबाज़**  
 चंडूबाज़ 212.15 ⇨  
**चंडेश्वर**  
 शिव 767.1  
**चंडोप्रा**  
 नायिका सूची 774.46  
**चंडोवरी**  
 राक्षस स्त्री सूची 784.23  
**चंडोल्ह**  
 डोली 1071.21  
**चंड**  
 अनेक 940.10  
 अल्प 942.13  
 चंद्रमा 8.2  
 -चंड (जैसे: दोचंड)  
 गुणित 949.42  
**चंड एक**  
 अल्प 942.13  
**चंडक पुष्प**  
 लींग 281.30  
**चंडन**  
 काष्ठ सूची 597.2  
 चंडन 274.20 ⇨  
**चंडन गद्दी**  
 तख्ती 415.3  
**चंडन गिरि**  
 मलयाचल 17.13  
**चंडनांग**  
 विष्णु 768.1  
**चंडनी**  
 चंडनी 287.6  
**चंडनीया**  
 गोरोगन 274.19  
**चंडर**  
 चंद्रमा 8.2  
**चंडरोप्रा**  
 अल्प कालीन 38.8  
**चंडवा**  
 टोप टोपी: चंडवा 584.20  
 तालाब: गहरा भाग 18.12

मछली गड्डा 252.27  
**चंडा**  
 चंडा 665.1 ⇨  
 चंद्रमा 8.2  
 प्रवेश तुल्क 665.4  
 तुल्क 665.2  
**चंडाबल बस्ता**  
 पृष्ठ रक्षक सेना 933.4  
**चंडिया**  
 केराहीन सिर 137.17  
 टॉट 140.4  
 तालाब: गहरा भाग 18.12  
 मछली गड्डा 252.27  
**चंडिर**  
 हाथी 127.38  
**चंडोया**  
 टोप टोपी: चंडवा 584.20  
**चंडोवा**  
 चंडोवा 600.18 ⇨  
 छोटा मंडप 600.15  
 मसहरीदार पलंग 594.11  
 वस्त्र सायबान 615.4  
**चंड**  
 कर्मसाक्षी देवता सूची 772.18  
 चंद्र 773.28 ⇨  
 चंद्रमा 8.2  
 हीरा 96.28  
**चंड (बै.)**  
 चंद्र 773.28  
**चंड आकर्षण**  
 ज्वार 1040.26  
**चंडक**  
 सफ़ेद मिर्च 278.8  
**चंडक (म्र)**  
 नेत्र. लेंस 141.10  
 लेंस 283.4  
**चंड कला**  
 चंद्र कला 8.3 ⇨  
 चंद्र कला सूची  
 चंद्र कला सूची 8.4 ⇨  
**चंडकांत**  
 कुमुद 14.9  
**चंडकांत मणि**  
 चंद्रकांत मणि 96.17 ⇨  
**चंडकांति**  
 चोंदनी 287.6  
 चोंदी 95.3  
**चंड किरण**  
 चंद्र किरण 288.2 ⇨  
**चंडकी**  
 मोर 126.68  
**चंड केंद्र**  
 चंद्र स्थल 1069.24  
**चंडकेतु**  
 लक्ष्मण: पुत्र सूची 770.51  
**चंडगूह**  
 नक्षत्र 4.5

चंद्रचूडामणि  
शिव 767.1  
चंद्र छायामूर्ति  
राहु 8.4  
चंद्रज  
बुध ग्रह 7.5  
चंद्रज्योत  
चौदनी 287.6  
चंद्रतल यान  
चंद्ररथ 1075.9  
चंद्रता  
चंद्रता 285.33 ⇨  
चंद्रता माप 958.49  
चंद्रता (ग्र)  
चंद्रता 285.33  
चंद्रता मान  
चंद्रता माप 958.49  
चंद्रता माप  
चंद्रता माप 958.49 ⇨  
चंद्र नाडी  
पिगला नाडी 757.4  
चंद्रपथ  
नक्षत्र चक्र 4.3  
चंद्र पथ: पक्व  
नक्षत्र 4.5  
चंद्रपोत  
चंद्रयान 1075.8  
चंद्र प्रकाश  
चौदनी 287.6  
चंद्रप्रभ  
तीर्थकर सूची 792.2  
बोधिसत्व सूची 793.16  
चंद्रप्रभा  
चौदनी 287.6  
चंद्र प्रासाद  
चंद्रशाला 614.24  
चंद्रबंधु  
कुमुद 14.9  
चंद्रबग्गी  
चंद्ररथ 1075.9  
चंद्र विंदु  
अनुनासिक चिह्न 410.9  
चंद्रभस्म  
कपूर 274.14  
चंद्रभास  
तलवार 924.7  
चंद्र मंडल: 1/16  
चंद्र कला 8.3  
चंद्र मंडल: सोलहवीं भाग  
चक्र: सोलहवीं भाग 960.7  
चंद्र मणि  
चंद्रकांत मणि 96.17  
चंद्र मल्लिका  
गुल दाऊदी 14.10  
चंद्रमल  
चंद्रमा 8.2  
चंद्रमा  
उपग्रह 7.3

एक: उपमान सूची 948.18  
चंद्रमा 8.2 ⇨  
भवग्रह सूची 281.14  
चंद्रमा कलंक  
चंद्रमा कलंक 8.8 ⇨  
चंद्रमा: पत्नी  
दक्ष: मानस पुत्री 787.6  
रोहिणी 774.79  
चंद्रमा परिक्रमा काल  
चंद्रमा परिक्रमा काल 5.6 ⇨  
चंद्रमा प्रकाश मंडल  
चंद्रमा प्रकाश मंडल 287.4 ⇨  
चंद्रमा विषयक  
चंद्रीय 8.10  
चंद्र मास  
चांद्र मास 43.2  
चंद्रमा: स्थान  
सहजार 757.8  
चंद्रमुख [चंद्रमुखी]  
सुमुख [सुमुखी] 158.12  
चंद्रमौलि  
शिव 767.1  
चंद्रयान  
चंद्रयान 1075.8 ⇨  
चंद्र रत्न  
मोती 97.2  
चंद्ररथ  
चंद्ररथ 1075.9 ⇨  
चंद्र वंश  
चंद्र वंश 731.22 ⇨  
चंद्रवदन [चंद्रवदना]  
सुमुख [सुमुखी] 158.12  
चंद्र वधु  
बीर बहुटी 122.32  
चंद्रवार  
सोमवार 46.4  
चंद्र वैदूर्य  
चंद्रकांत मणि 96.17  
चंद्रशाला  
चंद्रशाला 614.24 ⇨  
चंद्र शृंग  
अर्ध चंद्रमा छोर 8.7  
चंद्रशेखर  
शिव 767.1  
चंद्र स्थल  
चंद्र स्थल 1069.24 ⇨  
चंद्रस्वरता  
चंद्रस्वरता 285.35 ⇨  
चंद्रहार  
चंद्रहार 228.27 ⇨  
चंद्रहास  
तलवार 924.7  
राक्षस सूची 784.4  
रावण तलवार 784.19  
चंद्रांशु  
चौदनी 287.6  
विष्णु 788.1

चंद्रा  
छोटी इलायची 281.9  
चंद्राकार  
भवचंद्राकार 974.21  
चंद्राकारता  
भवचंद्राकारता 974.7  
चंद्रातप  
चौदोवा 600.18  
चंद्रशाला 614.24  
बरामदा 615.6  
चंद्रात्मज  
बुध ग्रह 7.5  
चंद्रानन  
स्कंद 773.50  
चंद्रानन [चंद्रानना]  
सुमुख [सुमुखी] 158.12  
चंद्रा मस्ते  
अनुनासिक चिह्न 410.9  
चंद्रायतन  
चंद्रशाला 614.24  
चंद्रालोक  
चौदनी 287.6  
चंद्रिकांबुज  
कुमुद 14.9  
चंद्रिका  
चंद्र कला सूची 8.4  
चमेली 14.16  
चौदनी 287.6  
जूही 14.18  
चंद्रिकापायी  
चकोर 126.33  
चंद्रिकोत्सव  
शरद पूर्णिमा 57.26  
चंद्रिमा  
चौदनी 287.6  
चंद्रिल  
बधुआ 189.28  
चंद्रीय  
चंदीय 8.10 ⇨  
चंद्रोन्माद  
चंद्रोन्माद 354.6 ⇨  
चंद्रोपल  
चंद्रकांत मणि 96.17  
चंपक  
घषा 14.15  
चंपत  
तीव्र पलायित 916.22  
पलायित 916.19  
चंपत करना  
चोरी करना 864.44  
चंपत बनना  
तीव्र पलायन करना 916.13  
चंपत होना  
तीव्र पलायन करना 916.13  
क्ररार होना 916.16  
चंपा  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
चंपा 14.15 ⇨

चैंपाई  
दवाई 989.5  
चैंपी  
दवाई 989.5  
मालिश 225.2  
चैंपू काव्य  
गद्य पद्य काव्य 451.8  
चैंपिया  
दधाने वाला 989.12  
चैंबल  
कमंडलु 642.13  
बाक 22.1  
भारत उपमहाद्वीप: नदी सूची 20.7  
चैंबी  
मोमजामा चादर 593.18  
चैंबेली  
घमेली 14.16  
चैंल  
रोपणार्थ उखड़ी पिंडी 548.10  
चैंवर  
खादर 552.5  
घामर 85.28  
निम्न तट सूची 25.24  
चैंवर गाय  
सुरागाय 127.49  
चैंवरी  
घामर 85.28  
सुरागाय 127.49  
चक  
अत्यधिक 944.7  
आश्चर्यित 379.8  
कलथरा 1077.36  
चकई 480.10  
छोटा ग्राम 620.4  
पट्टेदारी 622.5  
पहिया 1077.1  
चकई  
चकई 480.10 ⇨  
मादा चकवा 126.32  
लटई 575.9  
चकचाल  
चक्रापृति 71.4  
चकचूंदर  
चकचूंदर 127.66  
चकचूंदर  
चकचूंदर 127.66 ⇨  
चकतरारा  
सीमांकक 1001.38  
चकतरारी  
क्षेत्रांकन 1001.14  
चकती  
चकती 938.13 ⇨  
थेगली 577.10  
चकती  
चकती 938.13  
चकनाचूर  
बहुत थका 492.16

## चकपक

**चकपक**  
आश्चर्यित 379.8  
**चकपकाना**  
आश्चर्य होना 379.5  
**चकपकाहट**  
आश्चर्यितता 379.2  
**चकफेरी**  
परिक्रमा 1033.3  
**चकबंद**  
क्षेत्रांकित 1001.39  
परिसीमित 1001.35  
**चकबंदी**  
क्षेत्रांकन 1001.14  
परिसीमन 1001.9  
सीमांकन 1001.13  
**चकबस्त**  
क्षेत्रांकित 1001.39  
**चक्रमक्र**  
धक्रमक्र 107.6 ⇨  
**चकमक**  
धक्रमक्र 107.6  
**चकमक पत्थर**  
धक्रमक्र 107.6  
**चकमक मानव**  
उदय वज्र मानव 128.8  
**चकमा**  
धकमा 819.9 ⇨  
**चकमा देना**  
धकमा देना 819.14 ⇨  
छल करना 827.14  
**चकमेबाज़**  
धकमेबाज़ 819.18 ⇨  
छली 827.24  
**चकमेबाज़ी**  
धकमेबाज़ी 819.10 ⇨  
**चकर**  
चकवा 126.31  
**चकर धिषी**  
धुमेर 264.6  
**चकरा**  
भेंवर 1040.24  
**चकराना**  
आश्चर्य होना 379.5  
धुमेर आना 264.18  
भ्रमित होना 342.9  
**चकराया [चकराई]**  
भ्रमित 342.10  
मार्गभ्रांत 1099.7  
**चकराव**  
आश्चर्यितता 379.2  
**चकराहट**  
भ्रम 342.1  
**चकरी**  
परिक्रमा 1033.3  
**चकरी उंड**  
उंड सूची 485.10  
**चकल**  
रोपणार्थ उखाड़ 548.9

**चकलाई**  
चौड़ाई 965.4  
**चकला**  
क्षेत्र 34.1  
चकला 560.4 ⇨  
वेरया महल्ला 807.12  
**चकला [चकली]**  
चौड़ाई युक्त 985.11  
**चकली**  
धिरनी 1077.39  
चक्की 560.13  
**चकलेदार**  
लगान वसूल कर्ता 647.37  
**चकले वाली**  
सस्ती वेरया 807.8  
**चकल्लस**  
धुहल 385.6  
छेड़छाड़ 708.5  
तकरार 708.7  
नोकझोक 385.8  
**चकल्लसी**  
धुहलबाज़ 385.14  
तकरारी 708.14  
**चकवा**  
धकवा 126.31 ⇨  
**चकहा**  
पहिया 1077.1  
**चकाचक**  
अति आर्द्र 88.28  
अत्यधिक 944.7  
उज्ज्वल 218.37  
धमकदार 287.36  
धिकना [धिकनी] 269.22  
भरपेट 182.17  
ससिक्त 1008.29  
**चकाचोध**  
आश्चर्यितता 379.2  
धकाचोध 287.21 ⇨  
**चकाचोध पूर्ण**  
धकाचोध पूर्ण 287.35 ⇨  
**चकाचोध होना**  
धकाचोध होना 287.29 ⇨  
**चकास**  
आश्चर्यितता 379.2  
कोध 287.20  
धमक 287.22  
**चकासन**  
आलोकित होना 285.38  
**चकासित**  
आलोकित 285.45  
**चकित**  
आश्चर्यित 379.8  
**चकितता**  
आश्चर्यितता 379.2  
**चकित होना**  
आश्चर्य होना 379.5  
भ्रमित होना 342.9

**चकुला [चकुली]**  
पक्षी: शिशु 230.9  
**चकुवा**  
शिरीष 13.21  
**चकेट**  
चाक. उंडा 559.18  
**चकोतरा**  
खाद्य फल सूची 190.2  
चकोतरा 190.18 ⇨  
**चकोर**  
चकोर 126.33 ⇨  
**चकोरी**  
मादा चकोर 126.34  
**चकोह**  
भेंवर 1040.24  
**चक्कर**  
आश्चर्यितता 379.2  
एक चक्रावृत्ति 1033.13  
क्रमहीनता 992.1  
गश्त 1083.16  
धुमेर 264.6  
चक्रावृत्ति 71.4  
परिक्रमा 1033.3  
भ्रम 342.1  
मैंडराव 1033.12  
मार्ग भ्रम 1099.1  
वृत्त (चक्र) 972.1  
शब्दांडबरपूर्ण तर्क 325.6  
सर्पिल मोड़ 974.13  
सीदागर फेरी 1083.17  
**चक्कर काट कर**  
बाहर बाहर 1097.24  
**चक्कर काट कर निकलना**  
बाहर से गुजरना 1097.13  
**चक्कर काटना**  
परिक्रमा करना 1033.15  
मैंडराना 1033.16  
**चक्कर खाना**  
आश्चर्य होना 379.5  
धूमना 1033.14  
**चक्कर झूला**  
घरखी झूला 1034.10  
**चक्करघाट**  
चक्रिल 973.10  
**चक्कर मापी**  
चक्र मापी 958.35  
**चक्कर लगाना**  
परिक्रमा करना 1033.15  
**चक्का**  
चक्की पाट 560.15  
चक्र 1077.31  
चाक 559.15  
ठेला 938.41  
धक्का 938.24  
परिधि 972.4  
पहिया 1077.1  
**चक्का जाम**  
हड़ताल 902.11

**चक्का पंप**  
घरखी पंप 19.17  
**चक्का: हत्था**  
चक्का: हत्था 596.25 ⇨  
**चक्की**  
चक्की 560.13 ⇨  
पिसाई 540.8  
**चक्की बलाना**  
पीसना 540.14  
**चक्की: धुरी**  
चक्की: धुरी 560.14 ⇨  
**चक्की: पाट**  
चक्की: पाट 560.15 ⇨  
**चक्की: मेंड़**  
चक्की: मेंड़ 560.16 ⇨  
**चक्की: हत्था**  
चक्का हत्था 596.25  
**चक्कू**  
चाकू 561.6  
**चक्र**  
एक चक्रावृत्ति 1033.13  
कलथरा 1077.38  
कूट पाश 1013.9  
कोल्हू 83.7  
गश्त 1083.16  
चकवा 126.31  
चक्र 1077.31 ⇨  
चक्रावृत्ति 71.4  
चाक 559.15  
छह: उपमान सूची 948.28  
जन्म कुंडली 261.7  
दल 691.1  
धर्म चक्र 407.16  
पदक 857.7  
परिक्रमा 1033.3  
परिधि 972.4  
परिधि चक्रण 1033.2  
पहिया 1077.1  
भेंवर 1040.24  
भुजाकृति 969.2  
राज्य 881.5  
वीरता चक्र 857.11  
वृत्त (चक्र) 972.1  
चटचक्र 757.7  
चडचंत्र 827.8  
सुदर्शन चक्र 928.3  
सेना 932.1  
सेना व्यूह 907.8  
हस्त धिहन सूची 261.38  
**चक्र: 1/12**  
चक्र: बारहवाँ भाग 960.6  
**चक्र: 1/2**  
चक्र. आधा भाग 960.2  
**चक्र: 1/30**  
चक्र: तीसवाँ भाग 960.8  
**चक्र: 1/32**  
चक्र. बत्तीसवाँ भाग 960.9



चक्र: 1/360  
अंश 960.12  
चक्र: 1/4  
चक्र. चौथा भाग 960 3  
समकोण 970.2  
चक्र: 1/8  
चक्र: छठा भाग 960 4  
चक्र: 1/60  
चक्र: साठवाँ भाग 960 11  
चक्र: 1/8  
चक्र: आठवाँ भाग 960.5  
चक्र: अक्ष दंड  
अक्ष दंड 1077 12  
चक्र: आठवाँ भाग  
चक्र आठवाँ भाग 960.5 ⇨  
चक्र: आधा भाग  
चक्र आधा भाग 960.2 ⇨  
चक्रक  
अंतहीन तर्क 325 5  
चक्र गति माप  
चक्र गति माप 958.34 ⇨  
चक्रगदाधर  
विष्णु 768 1  
चक्रगुच्छ  
अशोक 13 4  
चक्रघर  
तेली [तेलिन] 83 9  
बाजीगर 473 18  
चक्रचारी  
रथ 1071.46  
चक्र: चौथा भाग  
चक्र चौथा भाग 960 3 ⇨  
चक्र: छठा भाग  
चक्र छठा भाग 960.4 ⇨  
चक्रजीवी  
कुम्भकार 680 34  
चक्र झुला  
चक्र झुला 1034.9 ⇨  
चक्र झुला: डोली  
चरखी झुला: डोली 1034.11  
चक्रण  
धुरी चक्रण 1033 1  
परिधि चक्रण 1033 2  
पृथ्वी आवर्तन 5.1  
चक्रण बिंदु  
चक्रण बिंदु 1033 8 ⇨  
चक्रणशील  
चक्रणशील 1033.18 ⇨  
चक्रित 1033 17  
चक्रता  
चक्रिलता 973 1  
चक्र: तीन वीं साठवाँ भाग  
अंश 960 12  
चक्र: तीसवाँ भाग  
चक्र: तीसवाँ भाग 960.8 ⇨  
चक्रघर  
कृष्ण 771.1  
राजा 882.6

विष्णु 768 1  
सुदर्शन चक्रधारी 928.9  
चक्रधारा  
नेमि 1077 P  
चक्रधारी  
सुदर्शन चक्रधारी 928.9  
चक्रनख  
नखी 274.23  
चक्र नामि  
चक्र बिंदु 971.4  
पहिया नामि 1077.4  
चक्रनामा  
माक्षिक धातु 92 9  
चक्र नेमि  
परिधि 972 4  
चक्र: पचासवाँ भाग  
चक्र: पचासवाँ भाग 960.10 ⇨  
चक्रपाणि  
कृष्ण 771 1  
विष्णु 768.1  
सुदर्शन चक्रधारी 928 9  
चक्रपाद  
चक्र यान 1070 2  
रथ 1071 46  
हाथी 127 38  
चक्रपाल  
सेनापति 935 1  
चक्रपूज्या (संज्ञ)  
नवकन्या 774 19  
चक्र प्रति मिनट  
चक्र गति माप 958 34  
चक्र प्रति सैकंड  
चक्र गति माप 958.34  
चक्र: बत्तीसवाँ भाग  
चक्र: बत्तीसवाँ भाग 960.9 ⇨  
चक्र: बारहवाँ भाग  
चक्र: बारहवाँ भाग 960 6 ⇨  
चक्र बिंदु  
चक्र बिंदु 971.4 ⇨  
चक्रभोग  
ग्रहभोग 4 10  
चक्रभ्रम  
खराद 559.13  
चक्र मंडली  
अजगर 123 17  
चक्र मापी  
चक्र मापी 958.35 ⇨  
चक्र मार्ग  
लीक 1063.16  
चक्र यान  
चक्र यान 1070.2 ⇨  
साइकिल 1071.48  
चक्ररद  
सुअर 127.81  
चक्रवर्ती  
चक्रवर्ती सम्राट 882.27  
विश्व विजेता 912.20

चक्रवर्ती यात्रा  
दिग्विजय यात्रा 907.27  
चक्रवर्ती राज्य  
साम्राज्य 881 10  
चक्रवर्तीवाद  
साम्राज्यवाद 884.12  
चक्रवर्ती सम्राट  
चक्रवर्ती सम्राट 882.27 ⇨  
चक्रवर्मा  
असुर सूची 783 8  
चक्रवर्मा (पूर्वजन्म)  
कर्ण 771 47  
चक्रवाक  
चकवा 126.31  
चक्रवाकी  
मादा चकवा 126 32  
चक्रवात  
चक्रवात 85.10 ⇨  
चक्रवात्या  
चक्रवात 85 10  
चक्रवान  
तेली [तेलिन] 83.9  
चक्र विचलन  
लहक 1084.21  
चक्रवृद्धि व्याज  
चक्रवृद्धि व्याज 633 11 ⇨  
चक्रव्यूह  
भ्रामक मार्ग 1063 5  
चक्र सर्मांतरता  
संकेद्रता 971.11  
चक्र: साठवाँ भाग  
चक्र: साठवाँ भाग 960.11 ⇨  
चक्र: सोलहवाँ भाग  
चक्र: सोलहवाँ भाग 960.7 ⇨  
चक्र स्केटिंग  
रोलर स्केटिंग 477 20  
चक्रांक  
लीक 1063.16  
चक्रांकी  
मादा हंस 126 77  
चक्रांग  
चक्र यान 1070 2  
रथ 1071 46  
हंस 126 76  
चक्रांगना  
मादा चकवा 126 32  
चक्रांगी  
मादा हंस 126 77  
चक्रांतरता  
संकेद्रता 971.11  
चक्रांतरीय  
सकेद्रीय 971.25  
चक्रांश  
अंश 960 12  
चक्रांश माप  
चक्रांश माप 960.1 ⇨  
चक्रांश माप इकाई  
अंश 960.12

चक्रांश मापी  
चक्रांश मापी 960.14 ⇨  
चक्राकार  
वृत्ताकार 972.15  
चक्राट  
बटमार 864.34  
बाजीगर 473 18  
मदारी 473 23  
चक्रानुक्रमण  
धुरी चक्रण 1033 1  
चक्रानुक्रमिक  
चक्रावृत्तिशील 71 12  
चक्रानुचक्र  
चक्रिलता 973.1  
चक्रायक  
चक्रायक 1033.19 ⇨  
चक्रायण  
परिक्रामण 1033.11  
चक्रायुध  
विष्णु 768.1  
सुदर्शन चक्र 928.3  
चक्रार्थ  
अर्थ परिधि 972.8  
चक्र: आधा भाग 960.2  
चक्रावर्त  
एक चक्रावृत्ति 1033.13  
चक्रावर्तन  
धुरी चक्रण 1033.1  
चक्रवर्ती  
चक्रावृत्तिशील 71.12  
चक्रावृत्ति  
चक्रावृत्ति 71.4 ⇨  
चक्रावृत्तिशील  
चक्रावृत्तिशील 71.12 ⇨  
चक्रिका  
चुटना गोल अस्थि 133.19  
चक्रधंत्र 827.8  
समूह 690 1  
सेना 932.1  
चक्रिणी  
ललिता देवी 774 80  
चक्रित  
चक्रित 1033.17 ⇨  
चक्रित अक्ष दंड  
कनक्टिंग रीड (ऑ) 1077.16  
चक्रिय  
पर्यटनशील 1090.45  
रथ आरूढ 1082.32  
चक्रिल  
उलझा [उलझी] 573.20  
चक्रावृत्तिशील 71 12  
चक्रिल 973.10 ⇨  
पेचदार 1016 49  
चक्रिलता  
चक्रिलता 973.1 ⇨  
चक्री  
आतिशबाजी सूची 56.6  
कुम्भकार 680.34

## यत्कीय

**चकर्ण** 480.10  
**चकती** 938.13  
**चकवा** 126.31  
**चक्रणशील** 1033.18  
**चक्री** 479.13 ⇨  
**तेली [तेलिन]** 83.9  
**नखी** 274.23  
**पहिया** 1077.1  
**बटमार** 884.34  
**बाणीगर** 473.18  
**मवारी** 473.23  
**रथ आरूढ** 1082.32  
**विष्णु** 768.1  
**शिव** 767.1  
**साहकिल** 1071.48  
**सुदर्शन चक्रधारी** 928.9  
**सेनापति** 935.1  
**चक्रीय**  
**परिधीय** 972.16  
**चक्रेश्वर**  
**कृष्ण** 771.1  
**चक्रवर्ती सम्राट** 882.27  
**तंत्रवादी** 737.37  
**विष्णु** 768.1  
**चक्रेश्वरी**  
**ललिता देवी** 774.80  
**चक्षण**  
**आस्वादन** 275.6  
**घाट** 200.11  
**चक्षु**  
**नेत्र** 141.1  
**चक्षु गौचर**  
**दूर्यमान** 282.19  
**चक्षुप्रास्थिता**  
**दृश्यता** 282.9  
**चक्षुदान**  
**नेत्रदान** 153.10  
**चक्षु पथ**  
**क्षितिज** 2.4  
**चक्षुहीनता**  
**अधता** 164.3  
**चक्षुचर**  
**तकरार** 708.7  
**चक्षुचिधिया**  
**तकरारी** 708.14  
**चखना**  
**उच्छिष्ट करना** 198.10  
**कम खाना** 182.12  
**स्वाद लेना** 275.11  
**चखने वाला**  
**स्वादज्ञ** 275.18  
**चखा [चखी]**  
**आस्वादित** 275.17  
**उच्छिष्ट** 198.11  
**चखाई**  
**आस्वादन** 275.6  
**प्रथम प्रयोग** 994.6

**चखाचखी करना**  
**कम खाना** 182.12  
**चखाव**  
**आस्वादन** 275.6  
**चखास**  
**स्वाद लोलुपता** 275.9  
**चखीया**  
**स्वादज्ञ** 275.18  
**चखोका**  
**नजर. टीका** 710.11  
**चखीली**  
**आस्वादन** 275.6  
**आस्वाद्य पदार्थ** 275.7  
**घटपटा उपाहार** 200.5  
**नद्य उपाहार** 200.4  
**चखीनी**  
**आस्वाद्य पदार्थ** 275.7  
**चखा**  
**घाया** 722.22  
**चधिया**  
**धधिया** 722.48 ⇨  
**चधिया ससुर**  
**पीतसरा** 724.12  
**चधिया सास**  
**पीतस** 724.13  
**चधी**  
**घाधी** 722.23  
**चधेरा [चधेरी]**  
**धधिया** 722.48  
**चधोड**  
**धधोड** 181.17 ⇨  
**चधोडना**  
**धधोडना** 181.42 ⇨  
**चट**  
**नख. पार्श्व त्वचा** 150.25  
**पूर्ण भक्षण** 181.11  
**पूर्ण भक्षित** 181.63  
**भक्षित** 181.62  
**लेहन** 181.8  
**चटक**  
**कीध** 287.20  
**गायक पक्षी सूची** 126.9  
**गीरिया** 126.30  
**घटकीला [घटकीली]** 289.33  
**घटघटाहट** 297.16  
**पिदा** 126.50  
**प्रस्फुटन** 119.1  
**स्फूर्त** 491.13  
**घटकदार**  
**घटकीला [घटकीली]** 289.33  
**घटकन**  
**तडकन** 544.5  
**घटकना**  
**धिडना** 373.23  
**झल्लाना** 373.24  
**तडकना** 544.14  
**प्रस्फुटित होना** 119.6

**घटकनी**  
**घटकनी** 809.20 ⇨  
**घटकनी बटन**  
**टिच बटन** 571.17  
**घटक मटक**  
**धमक धमक** 287.23  
**तडक भडक** 226.4  
**नाफ नखरा** 880.1  
**घट कर जाना**  
**पूरा खा जाना** 181.34  
**घटकल**  
**जूट मिल** 576.17  
**घटकाना**  
**भंजित करना** 539.8  
**घटकारी**  
**घुटकी** 296.2  
**घटकारी**  
**पक्षी समूह** 690.8  
**घटकाहट**  
**घटघटाहट** 297.16  
**प्रस्फुटन** 119.1  
**घटकी**  
**गीरिया** 126.30  
**घटकीला**  
**शृंगार प्रेमी (पुरुष)** 222.5  
**घटकीला [घटकीली]**  
**घटकीला [घटकीली]** 289.33 ⇨  
**घटकीलापन**  
**शृंगार प्रेम** 222.4  
**घटकीली**  
**शृंगार प्रेमी (स्त्री)** 222.8  
**घटकीले रंग वाला**  
**घटकीला [घटकीली]** 289.33  
**घटखारना**  
**स्वाद आनंद लेना** 275.12  
**घटखारा**  
**स्वाद आनंद** 275.8  
**घटखोरामन**  
**स्वाद लोलुपता** 275.9  
**घटघटाहट**  
**घटघटाहट** 297.16 ⇨  
**घटन**  
**तडकन** 544.5  
**घटनी**  
**अघलेह** 176.12  
**घटनी** 201.2 ⇨  
**लेह्यम** 188.7  
**घटनी चूर्ण**  
**बुकनी** 201.4  
**घटपट**  
**शीघ्रतः** 496.13  
**घटपटा [घटपटी]**  
**धरपरा [धरपरी]** 278.12  
**मसालेदार** 281.42  
**रोषक** 400.12  
**घटपटा उपाहार**  
**घटपटा उपाहार** 200.5 ⇨

**घटपटापन**  
**धरपरापन** 278.1  
**घटर घटर**  
**घाघालता** 428.5  
**घटर घटर करना**  
**घाघाल होना** 428.12  
**घटकार**  
**नाट्यशाला** 471.12  
**घटसाल**  
**बाल शिक्षालय** 321.10  
**घटा [घटी]**  
**घाटा [घाटी]** 181.67  
**घटाई**  
**घटाई** 593.49 ⇨  
**लेहन** 181.8  
**घटाक**  
**घटघटाहट** 297.16  
**घटाक पटाक**  
**शीघ्रतः** 496.13  
**घटाका**  
**घटघटाहट** 297.16  
**घटाखा**  
**घटघटाहट** 297.16  
**घटाखेवार**  
**मसालेदार** 281.42  
**घटाघट खाना**  
**सपटना** 181.48  
**घटापट**  
**शीघ्रतः** 496.13  
**घटावन**  
**अन्नप्राशन संस्कार** 798.10  
**घटास**  
**घटोरपन** 181.3  
**घटियल मैदान**  
**वनस्पतिहीन मैदान** 11.2  
**घटुल**  
**अस्थिर** 1037.22  
**घटुला**  
**मेघ विद्युत** 55.9  
**घटुलालस**  
**घाटुकारिता प्रेमी** 841.36  
**घटुलोल**  
**चंचल** 860.24  
**मधुर ध्वनिक** 294.27  
**मिष्टभाषी** 431.8  
**घटु बचन**  
**प्रिय बचन** 431.2  
**घटुकि**  
**घाटुकि** 841.16  
**घटुल्लोल**  
**मिष्टभाषी** 431.8  
**घटेल**  
**समतल** 986.9  
**घटेल मैदान**  
**वनस्पतिहीन मैदान** 11.2  
**घटोर**  
**घटोरा [घटोरी]** 181.50

**घटोरपन**  
घटोरपन 181.3 ⇨  
**घटोरा [घटोरी]**  
घटोरा [घटोरी] 181.50 ⇨  
लोभी 359.31  
स्वाद लोलुप 275.19  
**घटोरापन**  
स्वाद लोलुपता 275.9  
**घट्टा**  
गोटी 479.1  
बकती 938.13  
घट्टा 886.14 ⇨  
तमाचा 918.16  
बाजीगर: गोटी 473.20  
वनस्पतिहीन मैदान 11.2  
**घट्टा [घट्टी]**  
शिव्य 323.24  
**घट्टान**  
घट्टान 99.14 ⇨  
पाषाण 99.1  
**घट्टानी**  
अविचल 500.15  
घट्टानी 99.17 ⇨  
**घट्टा घट्टा**  
गोटी 479.1  
घनिष्ठता 704.13  
बाजीगर: गोटी 473.20  
**घट्टी**  
अस्थायी स्थान 618.15  
घट्टा 886.14  
मार्गस्थ पाथशाला 1090.26  
सराय 1090.33  
**घट्टू**  
घटोरा [घटोरी] 181.50  
बाजीगर. गोटी 473.20  
**घट्टबड**  
घटघटाहट 297.16  
**घट्टा**  
कुल्हा 148.11  
**घट्टी**  
आरोहण 1082.1  
पजमिया 587.9  
**घट्टी गौठना**  
आरोहित होना 1082.25  
**घट्टत**  
ऊर्ध्वगमन 1030.3  
नभोत्तरण 1081.18  
**घट्ट कर**  
उत्तमतर 313.12  
**घट्टत**  
घडावा 750.12  
वरयात्रा 800.43  
**घट्टत होना**  
वरयात्रा चलना 799.56  
**घट्टता [घट्टती]**  
आरोह क्रमिक 991.22  
आरोही 458.55  
उच्चक्रिल 973.12

उत्थानशील 1030.21  
उदीयमान 5.29  
ऊर्ध्वगामी 1030.24  
घटानयुक्त 988.11  
घटता उत्तरता [घटती उत्तरती]  
आरोह अवरोह शील 458.54  
**घटता क्रम**  
आरोह क्रम 991.3  
**घटता ज्वार**  
ज्वार 1040.26  
**घटता सूरज: पूजा**  
अवसरवादिता 827.3  
**घटती जवानी**  
अल्प कालीनता: उक्ति सूची 38.9  
नवयीवन 231.1  
**घटती सीढ़ी**  
ऐस्कलेटर 1062.9  
**घटती**  
आरोहत: 991.29  
उच्चत: 982.12  
**घटन**  
उन्नति 534.1  
ऊर्ध्वगमन 1030.3  
**घटना**  
अभिमानित होना 858.7  
आक्रमण करना 914.13  
आत्मबलि देना 754.19  
आदेय होना 634.20  
आरोहित होना 1082.25  
आवेश आना 371.1  
उन्नत होना 534.8  
ऊपर जाना 1030.14  
दमन करना 911.8  
नभोत्तरित होना 1081.45  
प्रबल होना 487.13  
प्रभावित करना 511.9  
मद प्रभाव होना 211.9  
महंगाई होना 864.24  
लिपना 292.10  
**घटनी**  
ऐस्कलेटर 1062.9  
**घट बड कर**  
उत्तमतर 313.12  
**घट बैठना**  
दमन करना 911.8  
**घडा [घडी]**  
उत्थित 1030.20  
ऊर्ध्वगत 1030.23  
घडावा घडा 750.17  
घुल्हे पर घडा 195.62  
नभोत्तरित 1081.51  
बलिदत्त 754.21  
महंगा [महंगा] 664.34  
यान आरूढ 1082.31  
लिपटा [लिपटी] 575.12  
**घडा आना**  
आसन्न होना 67.7

**घडाई**  
आक्रमण 914.3  
घटान 988.3  
पर्वतारोहण 1087.6  
लपेटन 575.2  
**घडा ऊपर**  
प्रतियोगिता 707.2  
**घडाघडी**  
प्रतिद्वंद्विता 707.1  
प्रतियोगिता 707.2  
**घडान**  
घडान 988.3 ⇨  
झोंटा 1034.2  
नभोत्तरण 1081.18  
रेंप 613.11  
**घडानवार**  
घडानयुक्त 988.11  
**घडानयुक्त**  
घडानयुक्त 988.11 ⇨  
**घडाना**  
उकसाना 499.6  
घडावा घडाना 750.18  
घुल्हे पर घडाना 195.47  
पट्टी पडाना 332.13  
पोतना 291.8  
प्रविष्टि करना 412.42  
बलि करना 754.18  
मैकना 592.12  
लपेटना 575.11  
लादना 1081.17  
लीपना 292.11  
लेखा प्रविष्टि करना 632.36  
**घडा घडा [घडी घडी]**  
उत्तम 313.13  
**घडाव**  
आरोह 458.3  
ऊर्ध्वगमन 1030.3  
ज्वार 1040.26  
बाड 22.1  
**घडावा**  
घडावा 750.12 ⇨  
दहेज 802.4  
देवोपहार 183.24  
नैवेद्य 750.7  
बलि वस्तु 754.2  
यज्ञ मांस 206.15  
**घडावा घडा**  
घडावा घडा 750.17 ⇨  
**घडावा घडाना**  
घडावा घडाना 750.16 ⇨  
**घडावा घडाने वाला** 750.18 ⇨  
**घडी जवानी**  
यीवन 231.6  
**घटत**  
आरोही 1082.2  
**घडीवी**  
घडीवी 588.18 ⇨

**घण**  
घना 188.11  
**घणक**  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
घना 188.11  
**घतरंग**  
शतरंज 478.9  
**घणु**  
घार 948.23  
घार. समुदाय 687.6  
घोथा [घोथी] 948.90  
**घणुशाल**  
आवास चौक 619.4  
**घणुवन**  
ब्रह्मा: मानस पुत्र 766.11  
**घणुरंग**  
राग गायन शैली सूची 480.39  
शतरंज 478.9  
सेना: घार अंग 932.9  
**घणुरंगिणी**  
घार अंगीय सेना 932.8  
सेना 932.1  
**घणुरत**  
परिसीमित 1001.35  
**घणुर**  
नीतिज्ञ 517.13  
प्रवीण 303.22  
बुद्धिमान 301.21  
विद्वान 319.8  
व्यवहार कुशल 828.10  
**घणुरता**  
नीतिज्ञता 517.7  
प्रवीणता 303.8  
बुद्धिमत्ता 301.5  
**घणुरल**  
आयत 969.5  
घतुर्भुज 969.4  
घतुर्भुजाकार 969.14  
घोताल 458.42  
वर्गाकार 969.17  
**घणुराई**  
कुटिलता 818.3  
बुद्धिमत्ता 301.5  
**घणुराई कुरती**  
हनुमंती कुरती 486.11  
**घणुराल्ना**  
विष्णु 768.1  
**घणुराधिक भुजता**  
बहुभुजता 969.7  
**घणुरानन**  
ब्रह्मा 766.1  
विष्णु 768.1  
**घणुरानीक**  
घतुकलक 977.21  
**घणुरायमता**  
घणुरायमता 964.14 ⇨  
**घणुरायाम**  
घणुरायामीय 964.25

## चतुरायामीय

चार आयाम 964 12  
चतुरायामीय  
चतुरायामीय 964 25 ⇨  
चतुराग्रम  
चार आग्रम 233 2  
चतुर्बन्ध  
चार खंडीय 938 55  
चतुर्बन्धी  
चार खंडीय 938 55  
चतुर्बन्धीय  
चार खंडीय 938 55  
चतुर्गुण  
चौगुना 949 45  
चतुर्थक यान  
चतुर्थक यान 1070.5 ⇨  
चतुर्थ  
चीथा [चौथी] 948 90  
चौथाई 949 39  
चतुर्थ [चतुर्थी]  
चीथा [चौथी] 948 90  
चतुर्थ आयाम  
काल 36 1  
चतुर्थ आयाम 964 15 ⇨  
चतुर्थ आग्रमी  
संन्यासी 790 11  
चतुर्थ कारक  
सम्प्रदान कारक 425 24  
चतुर्थ ताल  
चीताल 458 42  
चतुर्थ वर्ण  
शूद्र 731 28  
चतुर्थीश  
चक्र चौथा भाग 960 3  
चतुर्थीश 949 20 ⇨  
चतुर्थीशिक  
चौथाई 949 39  
चतुर्थी  
चतुर्थी 44 10 ⇨  
चतुर्थी क्रिया  
चौथा 253 9  
चतुर्दंत  
ऐरावत 780 5  
चतुर्दश  
चौदह 948 46  
चतुर्दशी  
चतुर्दशी 44 20 ⇨  
चतुर्दशीयुक्त अमावस्या  
चतुर्दशीयुक्त अमावस्या 44 22 ⇨  
चतुर्दिक  
चतुर्दिशत 29 36  
सर्वतोमुखी 29 29  
चतुर्दिक पवन  
चतुर्दिक पवन 85 19 ⇨  
चतुर्दिक रक्षा  
सरक्षा 908 3  
चतुर्दिश  
चतुर्दिशत 29 36  
सर्वतोमुखी 29 29

चतुर्दिश किनारा  
हाराशिया 1000 12  
चतुर्दिशतः  
चतुर्दिशत 29 36 ⇨  
चतुर्दिशता  
द्विआयामता 964 8  
सर्वतोमुखता 29 8  
चतुर्दिशा  
चार दिशा 29 4  
चतुर्दिशीय  
द्विआयामीय 964 23  
चतुर्धर्म  
चतुर्वर्ग 761 22  
चतुर्पाटीय  
चार खंडीय 938 55  
चतुर्पांश्वीय  
चतुर्पांश्वीय 997 15 ⇨  
चतुर्बाहु  
चतुर्भुजाकार 969 14  
विष्णु 768 1  
चतुर्भागीय  
चार खंडीय 938 55  
चतुर्भुज  
चतुर्भुज 969 4 ⇨  
चतुर्भुजाकार 969 14  
विष्णु 768 1  
चतुर्भुज पाषाण पटल  
चतुर्भुज पाषाण पटल 990.20 ⇨  
चतुर्भुजः व्यास  
चतुर्भुज व्यास 968.36 ⇨  
चतुर्भुजा  
गायत्री 774 34  
चतुर्भुज 969 4  
दुर्गा 776 7  
शक्ति 776 17  
चतुर्भुजाकार  
चतुर्भुजाकार 969.14 ⇨  
चतुर्भुजी  
चतुर्भुजाकार 969 14  
चतुर्भुजी देवियाँ  
सिद्धि देवी 774 100  
चतुर्भास  
वर्षा काल 54 1  
चतुर्मुख  
चतुर्दिशत 29 36  
सर्वतोमुखी 29 29  
चतुर्मुखी  
सर्वतोमुखी 29 29  
चतुर्भूति  
ईश्वर 764 1  
गणेश 773 22  
ब्रह्मा 766 1  
विष्णु 768 1  
स्कन्द 773 50  
चतुर्भूति  
नीति चतुष्टय 819 2  
चतुर्भुग  
चतुर्भुग 40 11 ⇨

चतुर्भुगी  
चतुर्भुगी 40.10 ⇨  
चारः समुदाय 687.6  
मित्र चौकड़ी 705.6  
चतुर्भुगीः 71  
मन्वतर 40.9  
चतुर्वर्ग  
चतुर्वर्ग 761.22 ⇨  
चतुर्वर्ग सूची  
चतुर्वर्ग सूची 761.23 ⇨  
चतुर्वर्ण  
चार वर्ण 731.3  
चतुर्विधा  
चार वेद 740 27  
चतुर्विध आहार  
चतुर्विध आहार 186.2 ⇨  
चतुर्विध आहार सूची  
चतुर्विध आहार सूची 186.3 ⇨  
चतुर्विधता  
विविधता 310 3  
चतुर्विध भोजन  
चतुर्विध भोजन 181.6 ⇨  
चतुर्विध भोजन सूची  
चतुर्विध भोजन सूची 181 7 ⇨  
चतुर्वेद  
ईश्वर 764.1  
चार वेद 740 27  
शिव 767 1  
संपूर्ण वेद 740 24  
चतुर्व्यूह  
चार समुदाय 687 6  
विष्णु 768.1  
चतुर्व्यूह विष्णुः अंश सूची  
चतुर्व्यूह विष्णुः अंश सूची 768.15 ⇨  
चतुष्क  
चार समुदाय 687 6  
चतुष्काठ  
चौखटा 604 9  
चतुष्काष्ठ  
चौखट 609 1  
चौखटा 604 9  
चतुष्की  
ऊँचा पटरा 595 15  
चतुष्कोण  
चतुर्भुज 969 4  
चतुर्भुजाकार 969 14  
वर्गाकार 969 17  
चतुष्कोणीय  
चतुर्भुजाकार 969 14  
चतुष्क  
चार समुदाय 687 6  
चतुष्टय  
चार समुदाय 687.6  
मित्र चौकड़ी 705 6  
चतुष्टोम यज्ञ  
यज्ञ सूची 753 2  
चतुष्पत्नीत्व  
चतुष्पत्नीत्व 799 13 ⇨

चतुष्पथ  
चौराहा 1064.5  
ब्राह्मण 731.13  
चतुष्पद  
पशु 127.1  
चतुष्पद जीव  
चतुष्पद जीव 121.11 ⇨  
चतुष्पदाः (म्र)  
चतुष्पद जीव 121 11  
चतुष्पदी  
चतुष्पदी 800.25 ⇨  
चतुष्पाद  
चतुष्पद जीव 121 11  
चतुष्पांश्व  
चतुष्कलक 977 21  
चतुष्कलक  
चतुष्कलक 977.21 ⇨  
चतुष्स्तना  
गाय 127 10  
चतुष्संप्रदाय  
चार वैष्णव संप्रदाय 737 50  
चतुष्सीमा  
परकोटा 604 11  
परिसीमा 1001.8  
चत्वर  
चबूतरा 610 6  
चौराहा 1064.5  
यज्ञ स्थान 753 17  
चत्वाल  
कुश घास 11 8  
दर्भ घास 11 9  
यज्ञ वेदी 753 24  
चदरा  
चादर 593.17  
चदरिया  
चादर 593.17  
चदर  
चादर 585 10  
चादर 593.17  
धातु पटल 990 17  
चनक  
चनका 392 11  
चना 188 11  
चनकन  
तड़कन 544.5  
चनकना  
चिकना 373 23  
तड़कना 544 14  
चनका  
चनका 392 11 ⇨  
चना  
अनाज सूची 187 6  
चना 188.11 ⇨  
दलहन सूची 188.7  
चनाः आटा  
बेसन 192 6  
चना चबैनु  
निर्धन आहार 197 8

मद्य उपाहार 200.4  
**चनीरी**  
 चनीरी 200 14 ⇨  
 नुकती सूची 203 17  
**चप-**  
 वाम पार्श्वीय 997 22  
**चपकन**  
 अंगरखा सूची 585 29  
**चपका**  
 छपका 609 21  
**चपटा [चपटी]**  
 समतल 986 9  
**चपटा झाका**  
 पार्श्व चित्र 404 16  
**चपटा गोल पिंड**  
 टिकती 977 12  
**चपटा टोकरा**  
 चपटा टोकरा 677.2 ⇨  
**चपटाना**  
 थिपकाना 1012 12  
**चपटापन**  
 समतलता 986 1  
**चपटी**  
 घुटकी 296 2  
 ताली ध्वनि 296 3  
 भग 152 13  
**चपटी कौड़ी**  
 कौड़ी थिरी 479 29  
**चपटी खपरैल**  
 निचली खपरैल 599 34  
**चपड़ क्रनाती**  
 चाटुकार 841 35  
**चपड़ चपड़**  
 वाघालता 428 5  
**चपड़ा**  
 कीट सूची 122 12  
 झींगुर 122 24  
 पत्तर 990 23  
**चपल**  
 अहित 712 2  
 तमाचा 918 16  
 हानि 646 7  
**चपलना**  
 थपाई करना 545 24  
**चपल रशीव करना**  
 तमाचा लगाना 918 27  
**चपलियाना**  
 तमाचा लगाना 918 27  
**चपली**  
 स्विन्ट 174.10  
**चपनी**  
 कटोरी 683 6  
 घुटना. गोल अस्थि 133 19  
 चपनी 675 9 ⇨  
 दक्कन 675.6  
**चपरना**  
 चुपड़ना 197 15

**चपररास**  
 चपररास 571.6 ⇨  
**चपररासगीरी**  
 चपररासगीरी 652 38  
**चपररास: बकसुआ**  
 चपररास: बकसुआ 571 7 ⇨  
**चपररासी**  
 चपररासी 652 39 ⇨  
**चपररासीगीरी**  
 चपररासीगीरी 652 38 ⇨  
**चपल**  
 अस्थिर 1037.22  
 तरल 80 5  
 द्रुत 1044 6  
 द्रुतगामी [द्रुतगामिनी] 1044.7  
 नःवर 38 7  
**चपल [चपला]**  
 चंचल 860 24  
**चपलता**  
 चंचलता 860 8  
 द्रुतता 1044 1  
 शीघ्रता 496 1  
**चपलम**  
 शीघ्रत 496 13  
**चपला**  
 भौंग 210 1  
 मेघ विद्युत 55 9  
 लक्ष्मी 775 1  
 व्यभिचारिणी 806 1  
**चपलाई**  
 स्फूर्ति 491 2  
**चपलाना**  
 ऊर्जायित करना 101 12  
**चपाट**  
 चपाट 588 19 ⇨  
**चपाती**  
 चपाती 202 16 ⇨  
**चपाना**  
 दबाना 989 8  
**चपेट**  
 आहति 168 1  
 टक्कर 1051 16  
 तमाचा 918 16  
 प्रहार 918 1  
 हानि 646 7  
**चपेटना**  
 आहत करना 168 5  
 झपट्टा मारना 914 15  
 झॉटना 373 25  
 तमाचा लगाना 918.27  
 दबाना 989 8  
 लीपना 292 11  
**चपेट में लेना**  
 झपट्टा मारना 914 15  
**चपेटा**  
 गिटू 479 3  
 झपट्टा 914 10  
 तमाचा 918 16

प्रहार 918.1  
**चपीटी**  
 चपीटी 584 9 ⇨  
**चप्पड़**  
 थिप्पड़ 938 40  
**चप्पन**  
 छिछला कटोरा 683.3  
**चप्पल**  
 थप्पल 588.12 ⇨  
**चप्पा**  
 चतुर्धारा 949 20  
**चप्पू**  
 चप्पू 1073.6 ⇨  
**चप्पू: कुंडा**  
 चप्पू कुंडा 1073.7 ⇨  
**चप्पू: दस्ता**  
 चप्पू दस्ता 1073.8 ⇨  
**चप्पू धारी**  
 चप्पू धारी 1080 20 ⇨  
**चप्पू नीका**  
 चप्पू नीका 1072.5 ⇨  
**चप्पू: फला**  
 चप्पू फला 1073 9 ⇨  
**चप्पू मारना**  
 नौकायन करना 1080 31  
**चप्पे चप्पे में**  
 चतुर्दिशत 29 36  
**चबा [चबी]**  
 चर्वित 181 64  
**चबाई**  
 चर्वण 181 13  
 भक्षण 181 10  
**चबा जाना**  
 पूरा खा जाना 181 34  
**चबाना**  
 चबाना 181.38 ⇨  
 भक्षण करना 181 33  
**चबारा**  
 कमरा 614 1  
 कुठला 670 9  
 चून चबारा 670.20  
 छत कक्ष 614 23  
**चबूतरा**  
 आधार सूची 596 2  
 कुओं चबूतरा 610 11  
 चबूतरा 610.6 ⇨  
 टेक चबूतरा 596 7  
 मंच 695 12  
 वेदी 745 45  
 समाधि चबूतरा 255.3  
**चबेनी**  
 आहार भत्ता 643 37  
**चबेना**  
 चबेना 200.6 ⇨  
 भक्षय 186 5  
**चबेनी**  
 आहार भत्ता 643 37

**चम-**  
 चर्मीय 582 32  
**चमक**  
 उत्तेजना 371 4  
 चंद्रस्वरता 285 35  
 चकाचीध 287.21  
 चमक 287.22 ⇨  
 तेजस्विता 839 5  
 पालिश 290 14  
 भव्य दृश्यता 402.2  
 रत्न आभा 98.3  
**चमक (दे.)**  
 दीप्ति 287 16  
**चमक आलेपन**  
 ग्लेज़िंग 218.11  
**चमक चौंवनी**  
 शृंगार प्रेमी (स्त्री) 222.6  
**चमकता [चमकती]**  
 आलोकित 285.45  
 उज्ज्वल 218 37  
 चकाचीध पूर्ण 287.35  
 चमकदार 287.36  
**चमक दमक**  
 चमक दमक 287.23 ⇨  
 तड़क भड़क 226.4  
 स्टारडम 464 4  
**चमकचमकदार**  
 तड़कभड़कदार 226.14  
**चमकदार**  
 उज्ज्वल 218.37  
 चकाचीध पूर्ण 287 35  
 चमकदार 287.36 ⇨  
 चमकीला [चमकीली] 289.34  
 प्रकाश परावर्तक 288.13  
 भव्यदृश्यतापूर्ण 402.4  
**चमकाना**  
 आलोकित होना 285 38  
 इतराना 860 15  
 उत्तेजित होना 371.7  
 उन्नत होना 534 8  
 कल्पना में आना 308 11  
 ख्याति हीना 847 2  
 चंचलता दिखाना 860 16  
 चमकना 287.30 ⇨  
 चीकना 379 6  
**चमकनी**  
 शृंगार प्रेमी (स्त्री) 222 6  
**चमक मारना**  
 कौंधना 287 28  
**चमका**  
 चमका 392 11  
**चमकाई**  
 उज्ज्वलन 218 10  
 ग्लेज़िंग 218.11  
 पालिशिंग 218 12  
**चमकाना**  
 उज्ज्वल करना 218.32  
 स्पष्ट करना 218.24

## चमकारना

### चमकारना

- कौंधना 287.28  
चमकना 287.30  
चमकारा  
कौंध 287.20  
चमकी  
आतिशबाजी सूची 56.6  
सितारे 571.50  
चमकीला [चमकीली]  
चमकदार 287.36  
चमकीला [चमकीली] 289.34 ⇨  
तड़कभड़कदार 226.14  
दीप्त 287.34  
चमकीले रंग वाला  
चमकीला [चमकीली] 289.34  
चमकीबल  
उज्ज्वलन 218.10  
चमककी  
व्यभिचारिणी 806.11  
चमगावड़  
चमगावड़ 127.67 ⇨  
चमचम  
चमक 287.22  
चमकदार 287.36  
चमचम 203.11 ⇨  
भयदृश्यतापूर्ण 402.4  
चमचमाना  
रलीसी (प्रिंट) 405.7  
चमचमानाता [चमचमाती]  
भयदृश्यतापूर्ण 402.4  
चमचमाना  
चमकना 287.30  
चमचमाइट  
चमक 287.22  
भय दृश्यता 402.2  
चमचा  
चम्मच 681.16  
घाटुकार 841.35  
बड़ा चम्मच 681.18  
चमचागीरी  
घाटुकारिता 841.17  
चमची  
चम्मच 681.16  
छोटा चम्मच 681.17  
चमका  
चर्म 582.1  
चर्मपत्र 415.6  
त्वचा 134.1  
चमका उत्तरार्ध  
चर्म कर्मी 582.3  
चमका उत्तरना  
विषर्माकरण करना 582.29  
चमका कमाई  
चर्म परिष्करण 582.24  
चमका कमाना  
चर्म परिष्कार करना 582.30  
चमका कील  
चोबिया 1016.16

### चमका: कुप्पी

- चमका: कुप्पी 678.10 ⇨  
चमका: चकती  
चमका: चकती 938.14 ⇨  
चमका चकाई  
चर्मावरण 582.5  
चमका तसना  
चमका तसना 571.31 ⇨  
चमका: धौला  
चमका: धौला 673.2 ⇨  
तोबका 673.7  
चमका पट्टी  
चमका पेटी 571.2  
चमका पेटी  
चमका पेटी 571.2 ⇨  
चमका मैडना  
चर्मावृत करना 582.31  
चमका मैका  
चर्मावृत 582.33  
चमका: संवृक  
चमका: संवृक 676.16 ⇨  
चमकी  
चर्म 582.1  
त्वचा 134.1  
चमत्कार  
करतब 506.7  
चमत्कार 379.4 ⇨  
जादू 474.2  
तिलिस्म 474.13  
शब्दालंकार 454.8  
शोबदा 473.26  
चमत्कारक  
करतबी 506.10  
चमत्कारी 379.10  
चमत्कार करना  
चमत्कार करना 379.7 ⇨  
चमत्कारपूर्ण  
चमत्कारी 379.10  
विलक्षण 312.16  
चमत्कारबाब  
हिंदी काव्य सिद्धांत सूची 453.12  
चमत्कार विद्या  
गुह्य विद्या 758.1  
चमत्कारी  
करतबी 506.10  
चमत्कारी 379.10 ⇨  
चमत्कारी दीपक  
जादुई चिरागा 474.23  
चमत्कारोक्ति  
चमत्कारोक्ति 434.9 ⇨  
चमत्कृत  
आश्चर्यित 379.8  
जादुकृत 474.37  
चमत्कृतता  
आश्चर्यितता 379.2  
चमत्कृत होना  
आश्चर्य होना 379.5

### चमत्कृति

- चमत्कार 379.4  
चमन  
उपवन 12.11  
क्यारी 551.16  
पुष्प उपवन 12.12  
फल उपवन 12.13  
चमनबंबी  
उपवन कर्म 12.27  
क्यारी कर्म 548.6  
चमर-  
चर्म कर्मी 582.3  
चमर  
चामर 85.28  
चमरख  
चमका: चकती 938.14  
चरखा: चमरख 582.10  
चमरी  
कोठरी 614.3  
चामर 85.28  
चाल 602.19  
नंजरी 115.10  
चमरीधा  
चमरीधा 588.20 ⇨  
चमस  
चम्मच 681.16  
यज्ञ चर्मस 753.23  
चमाचम  
आलोकित 285.45  
चमकदार 287.36  
भयदृश्यतापूर्ण 402.4  
चमाचम करना  
चमकना 287.30  
चमार  
चर्म कर्मी 582.3  
चमारगीरी  
चर्म कर्म 582.2  
चमू  
डिबीजन 932.23  
सेना 932.1  
चमूबर  
सैनिक 934.1  
चमूनाथ  
सेनापति 935.1  
चमूपति  
सेनापति 935.1  
चमेरी  
चाल 602.19  
चमेली  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
चमेली 14.16 ⇨  
चमेली (बै.)  
बेला 14.20  
चमोटा  
चमोटा 561.3 ⇨  
चमोटी  
चमोटा 561.3

### चमीआ

- चमरीधा 588.20  
चमीआ  
चमरीधा 588.20  
चम्मच  
कटलरी सूची 681.14  
चम्मच 681.16 ⇨  
चाय काशी: बरतन सूची 680.20  
चम्मल  
मिठा भांड सूची 642.12  
चय  
चयापचय 178.1  
समुच्चय 686.1  
समूह 690.1  
चयन  
चट्टा 686.14  
चयन 1009.2 ⇨  
छनाई 1009.8  
निर्वाचन 888.1  
संकलन पुस्तक 446.23  
संग्रहण 689.1  
संपादन 445.11  
चयन करना  
चयन करना 1009.13 ⇨  
चयन करवाना  
चयन करवाना 1009.14 ⇨  
चयन कर्ता  
चयन कर्ता 1009.19 ⇨  
चयन कृत  
चयन कृत 1009.18 ⇨  
चयन प्रजनन  
वरीय प्रजनन 243.6  
चयन: स्वतंत्रता  
स्वयं चयन 1009.3  
चयनिका  
संकलन पुस्तक 446.23  
चयापचय  
चयापचय 178.1 ⇨  
चयित  
चयन कृत 1009.18  
चर  
गुप्तचर 866.12  
जंगम 1037.18  
जीव 121.4  
दूत 443.9  
परिचारक 651.28  
परिवर्तनशील 532.17  
पर्यटनशील 1090.45  
संचल 1037.19  
समय क्षेत्र अंतर 50.5  
सेवक 651.25  
सैनिक 934.1  
-चर (जैसे: पक्षचर)  
गंता 1091.9  
चरई  
सानी: नौद 556.3  
चरका  
चकना 819.9

**चर काल**  
समय क्षेत्र अंतर 50.5

**चरख**  
चरखा 562.6  
डेलघांस 926.6  
तोप गाड़ी 1070.18  
हुचका 575.10

**चरखा**  
खटाराग 747.4  
चरखा 562.6 ⇌  
रहैट 19.13

**चरखा: घुंकी**  
चरखा: घुंकी 562.9 ⇌

**चरखा: चमरख**  
चरखा: चमरख 562.10 ⇌

**चरखा बलाना**  
कातना 567.14

**चरखा: तकला**  
चरखा: तकला 562.11 ⇌

**चरखा: हत्था**  
चरखा: हत्था 596.26 ⇌

**चरखी**  
घिरनी 1077.39  
चक्र 1077.31  
चरखी 126.35 ⇌  
चरखी 1077.33 ⇌  
लटई 575.9

**चरखी कपाट**  
चरखी कपाट 509.6 ⇌

**चरखी झूला**  
चरखी झूला 1034.10 ⇌

**चरखी झूला: जोली**  
चरखी झूला जोली 1034.11 ⇌

**चरखी द्वार**  
चरखी कपाट 609.6

**चरखी पंप**  
चरखी पंप 19.17 ⇌

**चरचर**  
चरचराहट 297.17

**चरचराहट**  
चरचराहट 297.17  
घिरमिराहट 104.2

**चर जगत**  
चेतन जगत 121.1

**चरण**  
पद संचालन 462.24

**चरण**  
आधार 596.1  
उपविभाग 937.5  
एक पद 1083.2  
काव्य पदांश सूची 452.48  
क्रम 991.1  
गमन 1091.1  
गीत: पद 451.21  
गोत्र 729.1  
चतुर्थांश 949.20  
घरण 150.9 ⇌  
निम्नता: उपमान सूची 983.7

नीर्वै 807.12  
परिधि चक्रण 1033.2  
पर्यटन 1090.6  
पैर 149.12  
मूल 112.10  
विकास स्थिति 534.5  
संचलन 1037.4

**चरण कमल**  
चरण कमल 158.10 ⇌

**चरण क्रम**  
विकास क्रम 991.12

**चरण प्रीति**  
टखना 149.17

**चरण चिह्न**  
पदचिह्न 867.4  
विष्णुपद मूर्ति 746.8

**चरण चुंबन**  
चरण चुंबन 1060.3 ⇌

**चरण तल**  
तलया 150.10

**चरण दास**  
विनम्र सेवक 651.3

**चरण धूलि**  
चरण धूलि 100.5 ⇌

**चरण न्यास**  
पदन्यास 1083.3

**चरण पावुका**  
खडाऊँ 588.11  
विष्णुपद मूर्ति 746.8

**चरण पीठ**  
पॉवड़ा 593.55

**चरण प्रक्षालन**  
पद प्रक्षालन 1059.18

**चरण रखना**  
शुभागमन करना 1093.7

**चरण रज**  
चरण धूलि 100.5

**चरण सेवक**  
विनम्र सेवक 651.3

**चरण स्पर्श**  
चरण स्पर्श 1060.2 ⇌

**चरणानुग**  
अनुगामी 1096.10

**चरणामृत**  
चरणामृत 750.3 ⇌  
पाद्य 750.6

**चरणारविंद**  
चरण कमल 158.10

**चरणार्थ**  
अष्टांश 949.21

**चरणों की दासी**  
पति सेविका 805.8

**चरत**  
चरत 126.37 ⇌  
शत्रुघ्न 770.58

**चरता**  
गतिशीलता 1042.2

**चरथ**  
गतिशील 1042.11

**चरन**  
चरना: कर्म 181.14

**चरना**  
चरना 181.39 ⇌  
चरना: कर्म  
चरना: कर्म 181.14 ⇌

**चरनी**  
चरागाह 556.10  
सानी: नौद 556.3

**चरपरा [चरपरी]**  
चरपरा [चरपरी] 278.12 ⇌  
मसालेदार 281.42

**चरपरापन**  
चरपरापन 278.1 ⇌

**चरपरा लगना**  
चरपरा लगना 278.10 ⇌

**चरपरा स्वाध**  
चरपरापन 278.1

**चरपराहट**  
चरपरापन 278.1  
घिरमिराहट 104.2

**चरपरा होना**  
चरपरा होना 278.11 ⇌

**चरव**  
वसायुक्त 132.22

**चरवदस्त**  
कुशल क्रमिक 651.20  
जेबकट 864.14

**चरबीक**  
पूट 734.20  
प्रवीण 303.22  
साहसी 394.13

**चरबा**  
परिकल्प 520.6

**चरबी**  
वसा 132.4  
स्थूलकायता 154.10

**चरबीदार**  
वसायुक्त 132.22

**चरबीला [चरबीली]**  
मांसल 154.33

**चरम**  
अंतिम 995.11  
उत्तम 313.13  
छोरस्थ 1000.15  
निर्तात अंतिम 995.15  
पराकाष्ठात्मक 534.13

**चरम अधोगति**  
अपकाष्ठा 535.3

**चरम अवस्था**  
अंतिम अवस्था 995.3

**चरम काल**  
वृद्धता 232.2

**चरम गति**  
मोक्ष 257.1

**चरम वृष्य**  
क्लाईमैक्स 463.29  
मुख्य घटना 466.14

**चरम बिंदु**  
खमध्य 2.5  
पराकाष्ठा 534.3

**चरमर**  
चरमराहट 297.17  
जर्जर वृद्ध 232.12

**चरमराहट**  
चरमराहट 297.17 ⇌  
घिरमिराहट 104.2

**चरम सत्य**  
परम सत्य 820.3

**चरम सीमा**  
चरम सीमा 1001.5 ⇌

**चरमापकषित**  
अपकाष्ठागत 535.8

**चरमोत्कर्ष**  
उत्कर्ष सीमा 1001.6  
क्लाईमैक्स 463.29  
पराकाष्ठा 534.3

**चरमोत्कर्ष पर**  
पराकाष्ठा पर 534.16

**चरर मरर**  
चरमराहट 297.17

**चरवाहा**  
चरवाहा [चरवाहन] 556.8

**चरवाहा [चरवाहन]**  
चरवाहा [चरवाहन] 556.8 ⇌

**चरवाहागीरी**  
चरवाहागीरी 556.7 ⇌

**चरवाही**  
चरवाहागीरी 556.7

**चरस**  
चमड़ा: थैला 673.2  
चरस 212.6 ⇌

**चरसा**  
गो चर्म 582.9  
चमड़ा थैला 673.2  
चरसा कुआँ 19.11  
जोल सूची 679.34

**चरसा: कुआँ**  
चरसा: कुआँ 19.11 ⇌

**चरसा चालक**  
चरसा चालक 19.23 ⇌

**चरसिया**  
चरसिया 212.16 ⇌

**चरसी**  
चरसिया 212.16

**चराई**  
चरना: कर्म 181.14  
चरवाहागीरी 556.7

**चरागाह**  
चरागाह 556.10 ⇌

**चरागाह (दे.)**  
घास मैदान 11.5

## चराचर

**चराचर**  
जंगम स्थावर 1037 17  
**चराचर गुरु**  
ब्रह्मा 766 1  
**चराचर जगत**  
जड़ चेतन जगत 78 1  
**चराचरता**  
जंगमता स्थावरता 1037 1  
**चराचर सृष्टि**  
जड़ चेतन जगत 78.1  
**चरान**  
चरागाह 556 10  
**चराना**  
छल करना 827 14  
मूर्ख बनाना 302 6  
**चरिदा**  
पशु 127 1  
**चरित**  
आचरित 808 12  
उपभुक्त 524 14  
चरित्र 810 1  
जीवनी 450 20  
लीला 506 8  
व्यक्तित्व 836 1  
**चरितकार**  
जीवनी लेखक 448 12  
**चरित नायक**  
नायक 467 5  
**चरित माला**  
जीवनी संकलन 446 30  
**चरित लेखक**  
जीवनी लेखक 448 12  
**चरितव्य**  
आचरणीय 808 13  
**चरितार्थ**  
घटित 75 11  
चरितार्थ 438.8 ⇨  
सफल 512 6  
**चरितार्थता**  
चरितार्थता 438 2 ⇨  
सफलता 512 1  
**चरितार्थ न होना**  
चरितार्थ न होना 439.4 ⇨  
**चरितार्थ होना**  
चरितार्थ होना 438.5 ⇨  
**चरिताबली**  
जीवनी संकलन 446.30  
**चरितर**  
पाखंड 825 2  
**चरित्र**  
चरित्र 810 1 ⇨  
चरित्र पात्र 467 1  
जीवनी 450 20  
लीला 506 8  
सम्बन्धिता 810 2  
**चरित्र (वे.)**  
व्यक्तित्व 836 1

**चरित्र अभिनेता**  
चरित्र अभिनेता 464.9 ⇨  
**चरित्र चित्रण**  
चरित्र वर्णन 449.4  
**चरित्र पात्र**  
चरित्र पात्र 467.1 ⇨  
**चरित्र लेखक**  
जीवनी लेखक 448 12  
**चरित्रवती**  
सम्बन्धिता 810.6  
**चरित्र वर्णन**  
चरित्र वर्णन 449.4 ⇨  
**चरित्रयान**  
सम्बन्धिता 810 5  
**चरित्रहीन**  
दुश्चरित्र 811.5  
व्यभिचारी 806 10  
**चरित्रहीनता**  
दुश्चरित्रता 811 1  
विवाह अनिष्टा 806 1  
**चरित्रहीना**  
दुश्चरित्रा 811 6  
व्यभिचारिणी 806 11  
**चरित्री**  
सम्बन्धिता 810 5  
**चरित्रीय**  
चारित्रिक 810 4  
**चरी**  
कुटनी 807 11  
चरना कर्म 181 14  
चरागाह 556 10  
दासी 651 10  
दूती 467 16  
सेविका 651 26  
**चरु**  
हव्यात्र 753 26  
**चरेरा [चरेरी]**  
रुखा [रुखी] 197 24  
**चरेया**  
चरवाहा [चरवाहन] 556.8  
**चरोखर**  
चरागाह 556.10  
**चर्च**  
आकाश 2 1  
ख़राद 559 13  
चक्रणशील 1033 18  
चरखा 562 6  
चर्च 1077.34 ⇨  
घाक 559 15  
डेलवॉस 926 6  
**चर्चा**  
चरखा 562.6  
**चर्ची**  
चक्रणशील 1033.18  
परिक्रमणशील 1033.20  
**चर्च (अं)**  
गिरजाघर 745.20  
धर्म 735 1

**चर्चण**  
विमर्शन 330.12  
**चर्चिका**  
अंग मुद्रा 464.33  
धुंधराले केश 137 13  
फाग 457.35  
**चर्चरीक**  
महाकाल मीरव 767.30  
**चर्चा**  
अपुष्ट समाचार 440.5  
उल्लेख 437.6  
ख्याति 847.1  
गोष्ठी 694.4  
चर्चा 436.1 ⇨  
परिचर्चा 436.3  
प्रसंग 437.1  
वार्तालाप 435.1  
विचार गोष्ठी 694.7  
विचारण 330.5  
विमर्श 330.11  
विवेचन 427.13  
**चर्चा करना**  
प्रसंग छेड़ना 437.9  
**चर्चा का विषय होना**  
चर्चित होना 436 6  
**चर्चा छिड़ी है तो**  
संदर्भवश 437 17  
**चर्चा परिचर्चा**  
गोष्ठी 694.4  
विचार गोष्ठी 694.7  
**चर्चिका**  
दुर्गा 776.7  
परिचर्चा 436.3  
**चर्चिक्य**  
अंग रंजन 225.4  
उबटन 225 5  
**चर्चित**  
अंग रंजित 225 39  
आलोपित 292 13  
उल्लिखित 437 13  
ख्यात 847.3  
चर्चित 436.9 ⇨  
**चर्चितता**  
चर्चितता 436.2 ⇨  
**चर्चित होना**  
चर्चित होना 436.6 ⇨  
**चर्पट**  
तमाचा 918 16  
**चर्म**  
चर्म 582.1 ⇨  
चर्मय 582 32  
ढाल 921.1  
त्वचा 134 1  
**चर्म आसन**  
चर्म आसन 595.4 ⇨  
**चर्म कर्म**  
चर्म कर्म 582.2 ⇨

**चर्म कर्मी**  
चर्म कर्मी 582.3 ⇨  
**चर्म कवच**  
चर्म कवच 921.3 ⇨  
**चर्मकार**  
चर्म कर्मी 582 3  
चर्मकार कर्म  
चर्म कर्म 582 2  
**चर्मकारिता**  
चर्म कर्म 582.2  
**चर्मकील**  
चर्मकील 165.7 ⇨  
**चर्मकूपक**  
चमड़ा. कुप्पी 678.10  
**चर्मपट**  
मशक 679.38  
**चर्म शिल्ली**  
त्वचा शिल्ली 134.2  
**चर्मण्य**  
चर्मय 582.32  
**चर्मण्वती**  
पौराणिक नदी सूची 20 23  
**चर्मधारी**  
ढालधारी 921 14  
शिव 767 1  
**चर्मपट**  
चमड़ा पेटी 571 2  
**चर्म पट्टिका**  
चमोटा 561.3  
**चर्मपत्र**  
चर्मपत्र 415.6 ⇨  
**चर्मपत्रा**  
चमगादड़ 127.67  
**चर्म परिधान**  
चर्म परिधान 583.8 ⇨  
**चर्म परिष्करण**  
चर्म परिष्करण 582.24 ⇨  
**चर्म परिष्कार करना**  
चर्म परिष्कार करना 582.30 ⇨  
**चर्म पुटक**  
चमड़ा धैला 673.2  
**चर्ममुंडा**  
चामुंडा 776 5  
**चर्म रोग**  
त्वचा रोग 165.1  
**चर्मौत**  
चमड़ा चकती 938 14  
**चर्मावरण**  
चर्मावरण 582.5 ⇨  
**चर्मावृत**  
चर्मावृत 582.33 ⇨  
**चर्मावृत करना**  
चर्मावृत करना 582.31 ⇨  
**चर्मावृत नीका**  
पनसुइया 1072.19  
**चर्भिक**  
ढालधारी 921.14



**धर्मोप**  
**धर्मोप** 582.32 ⇨  
**धर्म**  
 आधरणीय 808 13  
**धर्या**  
 अभ्यास 303 5  
 आधरण 808.1  
 गतिविधि 502.2  
 धरना: कर्म 181 14  
 परिधर्या 651.6  
 परिपाटी 514.9  
 पर्यटन 1090.6  
 प्रथा 795 9  
 भोजन कर्म 181 4  
 व्यवहार 828.1  
**धरमर**  
 धरमराहट 297 17  
**धररधु**  
 धरखी झूला 1034 10  
**धररना**  
 इच्छा होना 359.10  
 टूटना फूटना 539 10  
 लालसा होना 359 13  
**धर्यण**  
 धर्यण 181.13 ⇨  
**धर्यण (बै.)**  
 भक्षण 181 10  
**धर्यण आहार**  
 भक्ष्यम 186 5  
**धर्यणक**  
 दाढ 144 7  
**धरिका**  
 धामुडा 776 5  
**धरित**  
 धरित 181.64 ⇨  
**धरित धर्यण**  
 अनुलाप 435 9  
 जुगाली 181.19  
**धरणी**  
 कामुकी 237.15  
 व्यभिचारिणी 806.11  
**धरलु**  
 धलिष्णु 1090.42  
 धलिष्णु 1090 42  
 सचल 1037.19  
**धरलु करना**  
 चलता करना 1092 13  
**धरलुवी**  
 प्याऊ 207.11  
**धरल**  
 गंता 1091.9  
 गतिशील 1042.11  
 गहती 1083.27  
 जंगम 1037.18  
 तरंगित 1040.30  
 नम्बर 38.7  
 परिवर्तनशील 532.17  
 पर्यटनशील 1090.45

प्रवाहशील 1041.8  
 सचल 1037.19  
 स्पदित 1039 18  
**धरल अधल**  
 जंगम स्थावर 1037.17  
**धरलकर्ण**  
 हाथी 127 38  
**धरलधु**  
 धकोर 126.33  
**धरल धलाव**  
 मृत्यु काल 249 10  
**धरलधित**  
 अस्थिरधित 355.7  
 धचल 860.24  
 धिचलनशील 501 12  
**धरलधितता**  
 अस्थिरधितता 355 3  
 धचलता 860 8  
**धरलधित्र**  
 फिल्ल 472 1  
**धरलधित्र उद्योग**  
 फिल्ल जगत 470.3  
**धरलधित्रकार**  
 फिल्ल निर्देशक 488.12  
**धरलधित्र निर्देशक**  
 फिल्ल निर्देशक 468.12  
**धरलधित्र व्यवसाय**  
 फिल्ल जगत 470.3  
**धरलधित्रांकन**  
 फिल्लांकन 472.15  
**धरलघापा**  
 फिल्ल 472.1  
**धरल जगत**  
 धेतन जगत 121 1  
**धरल ज्योति**  
 बडवा दीप्ति 287 18  
**धरलत**  
 गति शैली 1084.1  
 घारी 464 23  
**धरलत फिरत**  
 गति शैली 1084.1  
 घारी 464 23  
**धरलत**  
 धलिष्णुता 1090 2  
 जंगमता 1037 2  
 परिवर्तनशीलता 532.2  
**धरलत [चलती]**  
 अति अनुभवी 303 18  
 काम चलऊ 941.7  
**धरलत [चलती]** 1046.25 ⇨  
 परिक्रमणशील 1033.20  
 प्रचलित 514 16  
 प्रथागत 795.15  
 प्रवाहित (जल) 21.39  
 संक्रमणशील 1091.15  
 संचल 1037 19  
 सामान्य 311.3

**धरलत आना**  
 परिपाटी होना 514.12  
**धरलतऊक**  
 प्रचलित (बोली) 421.32  
**धरलत करना**  
**धरलत करना** 1082.13 ⇨  
**धरलत छाता**  
 घालू छाता 631.4  
**धरलत पानी**  
 प्रवाहशील जल 21.11  
**धरलत पुरजा**  
 दौधबाज 819 19  
**धरलत फिरता [चलती फिरती]**  
 गहती 1083.27  
**धरलत फिरता धर**  
 केरेवान 1071 57  
**धरलत बनना**  
 धुपधाप पलायन करना 916.11  
**धरलती**  
 अधिकार 897 1  
 प्रताप 849.5  
 वरा 899.13  
**धरलती छाया**  
 फिल्ल 472.1  
**धरलती फिरती**  
 गहती 1083.27  
**धरलती सीकी**  
 ऐस्कलेटर 1082.9  
**धरलती हवा**  
 सचल वायु 85 4  
**धरलते**  
 जाते जाते 1091 16  
**धरलते आना**  
 परिपाटी होना 514.12  
**धरलते चलते**  
 जाते जाते 1091 16  
 राह चलते 1098.27  
 संदर्भवरा 437 17  
**धरलते चलते रुक जाना**  
 गति स्तंभन होना 1047 17  
**धरलते चलते रुकना**  
 निश्चल होना 1038.5  
**धरलते चलते**  
 कालांतर में 60.16  
**धरलते बनना**  
 पलायन करना 916 10  
**धरलते रहना**  
 दीर्घ काल तक रहना 37.6  
 विराम न होना 1049 6  
**धरलन**  
 आधरण 808.1  
 आरंभ 894.3  
 गति शैली 1084 1  
 निर्मन 1092.2  
 परंपरा 795.1  
 परिपाटी 514.9  
 पर्यटन 1090.6  
 प्रचलन 514.7

प्रथा 795 9  
 फ्रिशन 222 11  
 संचलन 1037.4  
 सामान्यता 311.1  
 स्पंदन 1039.2  
**धरलनक**  
 नर्तकी घाघरा 586 11  
**धरलन न होना**  
 प्रचलन न होना 515 6  
**धरलनशील**  
 धलिष्णु 1090 42  
**धरलनशील न होना**  
 निश्चल रहना 1038.6  
**धरलन शैली**  
 गति शैली 1084.1  
**धरलनहारा [चलनहारी]**  
 गता 1091.9  
**धरलन होना**  
 प्रचलन होना 514.11  
**धरलना**  
 अधिकार चलना 897.10  
 आधरण करना 808.9  
 आरंभ होना 994.10  
 चलना 560.20  
 जाना 1091.6  
 पैदल चलना 1083.18  
 प्रक्षिप्त होना 1052 13  
 प्रचलन होना 514.11  
 प्रवाहित होना 1041 4  
 यान प्रस्थान करना 1082.26  
 युक्ति लगना 517 8  
 वरा होना 899.21  
 विदा होना 1058 4  
 स्पंदित होना 1039 14  
**धरलना फिरना**  
 जीवनयुक्त होना 246.10  
**धरलनिका**  
 रेशमी झालर 571 41  
**धरलनी**  
 चलनी 560.21  
 रस्ती सूची 570.6  
**धरलनीय मार्ग**  
**धरलनीय मार्ग** 1063.2 ⇨  
**धरलने वाला**  
 गंता 1091 9  
**धरल पट्टा**  
**धरल पट्टा** 1076.26 ⇨  
**धरलपत्र**  
 पीपल 13.14  
**धरल बसना**  
 मरना 249.18  
**धरलबीक**  
 द्रुतगामी [द्रुतगामिनी] 1044.7  
**धरलभाष (प्र)**  
 वाकीटाकी 300.23  
**धरलभाषित्र (प्र)**  
 वाकीटाकी 300.23

## चलरूपाणु (प्र)

### चलरूपाणु (प्र)

अनीबाणु 122.3

### चल लक्ष्य

चल लक्ष्य 931.2 ⇨

### चलवंत

पदल सैनिक 934.7

### चल वायु

सघल वायु 85.4

### चलबासी

खानाबदोश 1090.44

### चल विह्वय

यात्रिक व्यापार 657.11

### चल संपत्ति

चल संपत्ति 624.9 ⇨

### चल समारोह

जुलूस 1088.7

### चल सीमा

चल सीमा 1001.4 ⇨

### चल सौपानिका

रेलिवेटर 613.12

### चल होना

जंगम होना 1037.12

### चला [चली]

अवतारित 1080.42

चालित 1046.23

प्रेषित 1054.14

फिट्टा [फिट्टी] 195 60

मंथित 554.26

संचलित 1037 20

संचालित (शस्त्र) 930.18

### चलाई

मुटाई 540 3

मंथन 554 12

यान चालन 1079 2

संचालन 1037 5

हँकाई 1079.11

### चलाक

मध्यम स्तरीय 313 18

मरणासन्न 249 27

### चलाक डेरा

मृत्यु काल 249 10

### चलाए जाना

मानव चालित होना 1046.17

### चलाचल

अस्थिर 1037.22

कालांतर मे 60 16

जंगम स्थावर 1037 17

### चलाचलता

जंगमता स्थावरता 1037 1

### चलाचली

मृत्यु काल 249 10

### चलाना

अनुप्राणित करना 1046 19

अवतारण करना 1080 36

आरंभ करना 994 11

उत्प्रेरित करना 499 5

ऊर्जायित करना 101 12

गत्विरित करना 1046 14

घोटना 540 11

दलाना 1046.16 ⇨

झाड़व करना 1079.20

निकालना 1092.12

प्रक्षेपण करना 1052.14

प्रणोदित करना 1051 19

प्रबंधन करना 655.15

प्रवर्तित करना 693.7

मंथन करना 554.21

मूर्ख बनाना 302 6

शस्त्र चलाना 930.5

शासन करना 890.16

संचालित करना 655 12

हँकना 1079.19

### चलाने वाला

प्रवर्तक 693 14

### चलायमान

परिवर्तनशील 532.17

लालसी 359 29

लुब्ध 359.30

विचलनशील 501.12

संचल 1037.19

### चलायमानता

अल्प कालीनता 38.3

परिवर्तनशीलता 532.2

### चलाया [चलाई]

प्रणोदित 1051.32

संचलित 1037 20

### चलावन

संचालन 1037 5

### चलावा

गमन 1091 1

गीना 800 11

परिपाटी 514 9

प्रथा 795 9

### चलित

अस्थिर 1037 22

विचलित 501 11

संचलित 1037.20

### चलित्तर

छल 827 7

नाज़ नख़रा 860.1

पाखंड 825 2

### चलिष्णु

चलिष्णु 1090.42 ⇨

जंगम 1037 18

### चलिष्णुता

चलिष्णुता 1090.2 ⇨

संचलता 1037 3

### चलिष्णु होना

चलिष्णु होना 1090.38 ⇨

### चले आना

आना 1093 6

### चले जाना

प्रवास करना 618.19

### चलो

हरी झंडी 1067 18

हरी बत्ती 1067 17

### चलीआ

टोना टोटका सूची 759.3

### चलीना

चरखा: हत्था 596.26

भाड़. कलछा 681.4

### चलीनी

कलछी 681.5

संचालन 1037.5

### चवभी

चवभी 629.11 ⇨

### चवरा

लोबिया 189 33

### चविका

गज पिप्पली 281 14

### चदी

गज पिप्पली 281 14

### चव्यजा

गज पिप्पली 281.14

### चवम

अंकुर 113.1

अंकुरण बिंदु 117 2

नेत्र 141 1

### चवमक

नेत्र मुद्दा 464.32

### चवमदीव

प्रत्यक्ष दर्शी 284 51

प्रत्यक्ष दृष्ट 284 50

प्रत्यक्ष साक्षी 876.18

### चवमदीव गवाह

प्रत्यक्ष साक्षी 876 18

### चवमा

उत्त्रोत 21 1

उत्त्रोत धारा 21.5

कूप उत्त्रोत 21.3

चरमा 283 2 ⇨

निर्झर 21 8

पूर्व धारणा 343 8

विचार कोण 330 2

सूई नाका 562 24

### चवमारु

कृषि रक्षक पुतला 550 3

### चवमा: लेंस

लेंस 283.4

### चवमे बव

नज़र 711 5

### चवक

कप 857 16

ज्वालामुखी. मुँह 9.19

प्याला 684 12

मद्यपान पात्र 209 38

### चसक

आस्वादन 275 6

टीस 392 13

पतली गोट 571.36

स्वाद 275.1

### चसकता [चसकती]

टीसता [टीसती] 392.29

### चसकना

टीसना 392.19

### चसका

भोग लिप्ता 363.4

स्वाद 275.1

स्वाद लोलुपता 275.9

### चसका पकना

भोग लिप्ता होना 363 10

### चसका लगना

भोग लिप्ता होना 363.10

### चसकी

धिपका [धिपकी] 1012.14

यिनियोप्य 438.7

संगत 438.8

### चसपाई

धिपकाई 1012 2

### चहक

आनंद ध्वनि 382.10

कलरव 298.8

फुदक 1086.2

### चहकना

आनंद ध्वनि करना 382.13

### चहका

ईट फ़र्श 610 3

### चहचह

आनंदपूर्ण 382.16

कलरव 298.8

### चहचहा

आनंद ध्वनि 382 10

कलरव 298 8

पक्षी बोली 298 7

### चहचहा [चहचही]

आनंदपूर्ण 382 16

### चहचहाना

आनंद ध्वनि करना 382.13

### चहचहाइट

कलरव 298 8

पक्षी बोली 298 7

### चहचह्या

चहचह्या 18.6 ⇨

### चहल पहल

आनंद मगल 382 3

आवासितता 616 6

उत्सवपूर्णता 56.2

### चहलपहलदार

उत्सवपूर्ण 56.9

### चहला

कीचड 214 2

### चहली

धिरनी 1077.39

### चहा

चहा धिरई 126.38

घाय 208 21

### चहा धिरई

चहा धिरई 126.38 ⇨

जलपक्षी सूची 126.7

### चहार

चार 948.23

**बहारबंध**  
चीगुना 949 45  
**बहारबीवारी**  
परकोटा 804 11  
**बहारबीवारी माप**  
सीमा माप 958.15  
**बहारबांधा**  
बुधवार 46 6  
**बहुँ**  
घार 948.23  
**बहुँ ओर**  
घतुदिरात 29 36  
**बहुँ दिश**  
घतुदिरात 29 36  
**बहेला**  
प्रेमपात्र 369 4  
**बहेला [बहेती]**  
प्रिय 369 7  
**बहेती**  
प्रेमपात्रा 369.5  
**बीइयी**  
कुटिल 818 7  
दौवबाज़ 819.19  
**बीई**  
उठाईगीर 864 11  
बटमार 864 34  
**बींगला [बींगली]**  
बलिष्ठ 160 10  
**बीबर**  
परती 552 6  
**बीबरि**  
फाग 457 35  
**बीटा**  
तमाचा 918 16  
**बीटी**  
थाप 458 51  
**बीक**  
टेक धुनी 596 4  
**बीडाल**  
वांडाल 254 10 ⇨  
**बीडाल चौकड़ी**  
मित्र चौकड़ी 705 6  
**बीडालनी**  
वांडालनी 254 11 ⇨  
**बीडालिनी**  
दुर्गा 776.7  
**बीडाली**  
वांडालनी 254 11  
**बीद**  
उपग्रह 7.3  
कपाल 133.6  
केहाहीन सिर 137.17  
घंद्रमा 8 2  
टॉट 140.4  
दूज का बीद 407 15  
प्रिय पुत्र 718 7  
लक्ष्य चक्र 931 6

**बीद का दुकका**  
अति सुंदर 157.8  
**बीद की ईद**  
ईदुल क़िलफ 57.46  
**बीद बडना**  
गर्भवती होना 241.13  
**बीदतारा**  
घाँवतारा 407.13 ⇨  
**बीदना**  
प्रकाश 287.1  
**बीदना होना**  
प्रभात होना 47.17  
**बीदनी**  
घाँवनी 287.6 ⇨  
छत. चादर 593 27  
मालती 14.21  
सफ़ेद क़रीं चादर 593.30  
**बीदनी: तपोहार**  
शरद पूर्णिमा 57.26  
**बीदनी रात**  
उजली रात 48 4  
**बीदमारी**  
लक्ष्य अभ्यास 931.8  
**बीदमारी बिंदु**  
लक्ष्य केंद्र 931.7  
**बीद लगना**  
शोभान्वित होना 226.7  
**बीदा**  
डी 956 6  
लक्ष्य चक्र 931 6  
**बीदिया**  
टॉट 140 4  
**बीदी**  
अष्टधातु सूची 93.6  
घाँदी 95.3 ⇨  
लाभ 646 2  
**बीदी का जुता**  
रिश्त 865 9  
**बीदी तीका स्वर्ण: पतरा**  
ऑक 283.18  
**बीदी बरतन**  
घाँदी बरतन 680.14 ⇨  
**बीदी बरतना**  
अच्छा लाभ कमाना 646 12  
**बीदी सिक्का**  
घाँदी सिक्का 629.3 ⇨  
**बीदी सोना**  
घाँदी सोना 95.1 ⇨  
**बीदी होना**  
अच्छा लाभ कमाना 646 12  
**बीद्र**  
चंद्रीय 8 10  
**बीद्र ज्योतिरचक्र**  
नक्षत्र चक्र 4 3  
**बीद्र विर्बस**  
तिथि 44 2  
**बीद्र पक्ष**  
मास. पक्ष 45 1

**बीद्रनस**  
चंद्रिय 8 10  
**बीद्र मास**  
चंद्रमा परिक्रमा काल 5.6  
घाँद्र मास 43.2 ⇨  
**बीद्र वर्ष**  
घाँद्र वर्ष 42.11 ⇨  
**बीद्र वर्ष: 80**  
बाह्रस्पत्य वर्ष 42.12  
**बीद्रि**  
बुध ग्रह 7.5  
**बीप**  
छाप 414 9  
दबाई 989.5  
**बीप बीप**  
पंप गति 1035 7  
**बीपनहार**  
दबाने वाला 989.12  
**बीपना**  
दबाना 989 8  
दबाना 989.8  
मालिश करना 225.37  
संकुचित करना 980.16  
**बीपा**  
चक्का: हत्था 596.25  
धिपी 938 15  
ट्रिगर 1046 10  
**बीपाकल**  
घाँपाकल 19.16 ⇨  
**बीपी**  
धिपी 938 15  
**बीवल**  
चावल 187 9  
**बींस (अँ)**  
लाटरी 481 20  
संभावना लक्षण 68 3  
संयोग 69.1  
**बींसलर (अँ)**  
कुलपति 323.13  
राजपूत 443.10  
राष्ट्रपति 882.2  
**बींसलरी (अँ)**  
राजदूतावास 443 13  
राजदूतावास 443.13  
**बी**  
घाय 208.21  
**बीइना (अँ)**  
चीनी मिट्टी बरतन 680 9  
**बीइना क्ले (अँ)**  
चीनी मिट्टी 100 15  
**बीइनायेअर (अँ)**  
चीनी मिट्टी बरतन 680 9  
**बीइनीज़ बैकर्स**  
बीइनीज़ बैकर्स 478.5 ⇨  
**बीइनीज़ बैकर्स (अँ)**  
बीइनीज़ बैकर्स 478 5  
**बीक**  
काट 543.2

**बीकिया मिट्टी** 100.13  
**बीक** 416.7 ⇨  
काक 559.15 ⇨  
चाक पूजन 800.15  
पहिया 1077.1  
फटा [फटी] 544.21  
बिदर 544.4  
बिदीर्ण 544.18  
बीषा सूची 865.20  
**बीक (बै.)**  
चाक 416 7  
**बीक: कील**  
चाक: कील 559.16 ⇨  
**बीक: कील पर टिकाने का गद्दा**  
कल कील पर टिकाने का गद्दा 559.17 ⇨  
**बीकचक**  
चमकदार 287.36  
दृक्काय 160.12  
सुरक्षित 908.27  
**बीकचक्य**  
चमक दमक 287.23  
शोभा 226 1  
**बीकचिक्य**  
चकाधीय 287.21  
**बीक चौकस**  
घेतनायुक्त 263 12  
बलिष्ठ 160 10  
स्वस्थ 161.5  
**बीक बीबंद**  
स्फूर्त 491 13  
**बीक: उंडा**  
चाक: उंडा 559.18 ⇨  
**बीकना**  
बिह्न करना 407.21  
**बीक पूजन**  
चाक पूजन 800.15 ⇨  
**बीकर**  
आवासीय सेवक 651.4  
परिचारक 651 28  
पूजक 751.3  
सेवक 651.25  
**बीकरनी**  
आवासीय सेविका 651 5  
परिचारिका 651.29  
सेविका 651.26  
**बीकरानी**  
परिचारिका 651.29  
सेविका 651.26  
**बीकरी**  
परिचर्या 651 6  
पूजा 751.1  
सेवा 651 1  
**बीकलेट (अँ)**  
चाकलेट बार 203.53  
**बीकलेट बार**  
चाकलेट बार 203.53 ⇨  
**बीकलेट बार (अँ)**  
चाकलेट बार 203.53

## चाकी

### चाकी

गुरु: भेली 280.15

### चाकू

चाकू 561.6 ⇨

नरतर 174.20

### चाकू घुरा

चाकू घुरी 561.7

### चाकू घुरी

चाकू घुरी 561.7 ⇨

### चाकू: फला

फला 270.9

### चाक्रिक

अश्वयान चालक 1079.5

गाड़ीवान 1079.9

तेली [तेलिन] 83.9

बंदीजन 841.15

सारथी 1079.10

### चाक्षुष

चाक्षुष 397.34 ⇨

दूर्यमान 282.19

नेत्रीय 141.15

### चाक्षुष कला

चाक्षुष कला 397.8 ⇨

### चाक्षुषता

दूर्यता 282.9

### चाक्षुष मनु

मनु सूची 788.4

### चाचर

हुण्डंग 294.13

### चाचा

चाचा 722.22 ⇨

परदा निषिद्ध संबंधी सूची 591.7

### चाची

चाची 722.23 ⇨

### चाट

घटोरपन 181.3

चाट 200.11 ⇨

भोग लिप्सा 363.4

लेहन 181.8

लेस्पम 186.7

विविध सामग्री उपमान सूची 669.5

स्वाद लोलुपता 275.9

### चाट आहार

लेस्पम 186.7

### चाट जाना

पूरा खा जाना 181.34

### चाटना

चाटना 181.45 ⇨

स्वाद आनंद लेना 275.12

### चाटना: कर्म

लेहन 181.8

### चाटने वाला

चाटने वाला 181.57 ⇨

### चाटा [चाटी]

चाटा [चाटी] 181.67 ⇨

### चाटुकार

चाटुकार 841.35 ⇨

### चाटुकारिता

चाटुकारिता 841.17 ⇨

### चाटुकारिता (दे.)

उल्लाप 435.11

### चाटुकारिता करना

चाटुकारिता करना 841.26 ⇨

### चाटुकारितापूर्ण

चाटुकारितापूर्ण 841.34 ⇨

### चाटुकारिताप्रिय

चाटुकारिता प्रेमी 841.36

### चाटुकारिता प्रेम

चाटुकारिता प्रेम 841.18 ⇨

### चाटुकारिता प्रेमी

चाटुकारिता प्रेमी 841.36 ⇨

### चाटुपटु

चाटुकार 841.35

भौंड 473.16

हास्य अभिनेता 464.16

### चाटुबटु

भौंड 473.16

हास्य अभिनेता 464.16

### चाटुलोल

चाटुकार 841.35

### चाटू

घटोरा [घटोरी] 181.50

### चाटूक्ति

चाटूक्ति 841.16 ⇨

### चाटूक्तिपूर्ण

चाटुकारितापूर्ण 841.34

### चाका [चाकी]

प्रेमासक्त 368.21

### चातक

चातक 126.39 ⇨

### चातकानंदन

मेघ 55.1

### चातर

मछली जाल सूची 1013.14

### चातुरक

घतुर्धक यान 1070.5

### चातुरिक

गाड़ीवान 1079.9

सारथी 1079.10

### चातुर्जातिक

चार समुदाय 687.6

### चातुर्दश

राक्षस 784.1

### चातुर्भद्रक

चार समुदाय 687.6

### चातुर्मास

चातुर्मास 618.11 ⇨

वर्षा काल 54.1

### चातुर्थ

बुद्धिमत्ता 301.5

### चातुर्थवर्ष

चार वर्ष 731.3

### चातुर्विध

चार वेद 740.27

### चातुर्होत्र यज्ञ

यज्ञ सूची 753.2

### चादर

उपहार परिधान सूची 583.23

ओढ़नी 585.9

ओसाई चादर 548.24

चादर 585.10 ⇨

चादर 593.17 ⇨

टिन चादर 990.18

धातु पटल 990.17

धातु पिंड सूची 976.12

परदा 605.6

फर्शी चादर 593.29

बिछावन चादर 593.28

मजार चादर 255.9

वस्त्राच्छाद 593.2

शरीर 139.1

### चादर आदि

हलका उढ़ावन 593.4

### चादर उतारना

अपमानित करना 855.6

लज्जित करना 845.8

### चादर लेना

ओढ़ना 592.9

### चाप

आहट 297.1

इंद्रधनुष 55.8

चाप 972.9 ⇨

दाब 989.4

धनुष 926.8

मडल रेखा 968.13

मेहराब 611.29

### चापकर्ण

चापकर्ण 972.10 ⇨

धनुष प्रत्यचा 926.15

चापकर्ण पर पड़ने वाला लंब

चापलंब 972.11

### चापट

कुशासनपूर्ण 894.8

दूर 526.11

### चापक

दूर 526.11

समतल 986.9

### चापना

दबाना 989.8

दबाना 989.8

रौदना 541.8

सकुचित करना 980.16

### चापलंब

चापलंब 972.11 ⇨

### चापलूस

चाटुकार 841.35

### चापलूची

उल्लाप 435.11

चाटुकारिता 841.17

चाटूक्ति 841.16

### चापलूची करना

चाटुकारिता करना 841.26

### चापाकार

नवचंद्राकार 974.21

### चापाकारता

नवचंद्राकारता 974.7

### चापिनी

ललिता देवी 774.80

### चापी

धनुषधारी 930.13

शिव 767.1

### चाब

चर्वण 181.13

### चाबना

चबाना 181.38

### चाबी

कूक 1046.9

चाबी 609.26 ⇨

स्पेनर 559.38

### चाबी देना

कूकना 1046.20

### चाबुक

चाबुक 555.23 ⇨

### चाबुक सवारी

अश्व प्रशिक्षण 555.10

### चाभी

चाबी 609.26

### चाम

चर्म 582.1

त्वचा 134.1

### चामत्कारिक

चमत्कारी 379.10

### चामर

चामर 85.28 ⇨

मोरछला 85.29

### चामरपुष्प

आम वृक्ष 13.5

### चामरी

सुरागाय 127.49

### चामुंडा

चामुंडा 776.5 ⇨

दुर्गा 776.7

नायिका सूची 774.46

भगवती 774.59

सप्त मातृका सूची 774.70

### चाय

चाय 208.21 ⇨

जलपान गोष्ठी 183.6

### चाय का चम्मच

छोटा चम्मच 681.17

### चायकाली

उपाहार 200.1

चाय काली: बरतन सूची

चाय काली: बरतन सूची 680.20 ⇨

### चायघर

चायघर 194.5 ⇨

### चाय पत्ती: पेय

चाय 208.21

### चायपानी

उपाहार 200.1

जलपान गोष्ठी 183.8  
 चाय पार्टी  
 जलपान गोष्ठी 183.6  
 चाय: बाग  
 चाय: बाग 551.6 ⇌  
 चाय बागान  
 चाय: बाग 551.6  
 चाय: मेज़  
 टी टेबल 595.34  
 चार  
 गुप्तघर 866.12  
 चार 948.23 ⇌  
 प्रथा 795.9  
 चार अंगीय सेना  
 चार अंगीय सेना 932.8 ⇌  
 चार आयाम  
 चार आयाम 964.12 ⇌  
 चार आयाम सूची  
 चार आयाम सूची 964.13 ⇌  
 चार आग्रम  
 चार आग्रम 233.2 ⇌  
 चार आग्रम सूची  
 चार आग्रम सूची 233.3 ⇌  
 चार: उपमान सूची  
 चार: उपमान सूची 948.24 ⇌  
 चार ऋतु सूची  
 चार ऋतु सूची 51.14 ⇌  
 चार एक  
 अल्प 942.13  
 चारक  
 गुप्तघर 866.12  
 चारकोल (अं)  
 लकड़ी कोयला 110.7  
 चार खंडा [चार खंडी]  
 चार खंडीय 938.55  
 चार खंडीय  
 चार खंडीय 938.55 ⇌  
 चारखानेदार चावर  
 चारखानेदार चावर 593.20 ⇌  
 चार गुना  
 चौगुना 949.45  
 चारचंद  
 चौगुना 949.45  
 चारजामा  
 जौन सूची 595.48  
 चारण  
 आरंभण 994.4  
 कवि 448.13  
 गायक 460.17  
 घरवाहागीरी 556.7  
 चारण 841.13 ⇌  
 प्रशंसा गायक सूची 841.12  
 भीड़ 473.16  
 चार ताल  
 चौताल 458.42  
 चार दिन  
 अल्प आयु 229.4  
 अल्प काल 38.4

चार दिन की चौबनी  
 अल्प कालीनता उक्ति सूची 38.9  
 चार दिशा  
 चार दिशा 29.4 ⇌  
 दस दिशा सूची 29.7  
 चार दिशा सूची  
 चार दिशा सूची 29.5 ⇌  
 चारबीबारी  
 परकोटा 804.11  
 चार मत्नी: प्रथा (इस्लाम)  
 चतुष्पत्नीत्व 799.13  
 चारपथ  
 राजमार्ग 1063.39  
 चार पहिया: गाड़ी  
 चतुर्भुज यान 1070.5  
 चार पौध  
 अल्प 942.13  
 चारपाई  
 खाट 594.6  
 चार पुरुषार्थ  
 चतुर्भुज 761.22  
 चार फेरे  
 चतुष्पदी 800.25  
 चारबाग  
 चौकोर उपवन 12.17  
 चार बीसी  
 अस्ती 948.68  
 चारभट  
 महायोद्धा 934.20  
 चार भाग में से एक  
 चौथाई 949.39  
 चार भाग में से तीन  
 पीना 949.35  
 चारयारी  
 गडा तावीज़ सूची 759.5  
 चार यारी  
 मित्र चौकड़ी 705.6  
 सुज़ी मत 736.10  
 चार युग: चौकड़ी  
 चतुर्भुगी 40.10  
 चाररोज़ा  
 अल्प कालीन 38.8  
 नश्वर 38.7  
 चार वर्ण  
 चार वर्ण 731.3 ⇌  
 चार विदिशा  
 दस दिशा सूची 29.7  
 चार वृत्ति  
 गुप्तघरी 866.10  
 चार वेद  
 चार वेद 740.27 ⇌  
 चार वेद सूची  
 चार वेद सूची 740.28 ⇌  
 चार वैष्णव संप्रदाय  
 चार वैष्णव संप्रदाय 737.50 ⇌  
 चार वैष्णव संप्रदाय सूची  
 चार वैष्णव संप्रदाय सूची 737.51 ⇌

चार: समुदाय  
 चार: समुदाय 687.6 ⇌  
 चार सी अस्ती (कड़ी कड़ी)  
 चार सी अस्ती कागज़: समुदाय 687.22  
 चार सी अस्ती कागज़: समुदाय  
 चार सी अस्ती कागज़: समुदाय 687.22 ⇌  
 चार सी बीस  
 कूटकार 98.15  
 चकमेबाज़ 819.18  
 छली 827.24  
 चार सी बीसी  
 चकमा 819.9  
 छल 827.7  
 चारा  
 आखेट चारा 252.6  
 चारा 556.4 ⇌  
 पशु पक्षी आहार 556.1  
 मछली चारा 252.9  
 विकल्प 516.1  
 चारा पक्षी  
 चारा पक्षी 252.7 ⇌  
 चारा पशु  
 चारा पशु 252.8 ⇌  
 चारासाज़  
 अधीनस्थ कर्मचारी 652.33  
 सहयोग कर्ता 700.20  
 चारित्रिक  
 चारित्रिक 810.4 ⇌  
 चारित्र्य  
 चरित्र 810.1  
 चारी  
 चार शैली 1084.1  
 चारी 464.23 ⇌  
 दूत कर्म 443.8  
 पट समक्ष पूर्वरेणु सूची 468.19  
 पर्यटनशील 1090.45  
 चारु  
 प्रिय 369.7  
 सुंदर 157.7  
 चारुकेश  
 सुंदर केश वाला 137.24  
 चारुकेशी  
 अप्सरा सूची 782.3  
 चारुता  
 सुंदरता 157.1  
 चारुदर्शन  
 सुंदरकाय 158.11  
 चारु देवी  
 सास 724.7  
 चारुधामा  
 राशी 774.89  
 चारुफल  
 पिस्ता 191.9  
 चारुमुखी  
 गधर्व: स्त्री सूची 778.8  
 चारुरुप  
 वानर सूची 781.7

चारुलोचन  
 सुनयन 158.14  
 हिरन 127.42  
 चारुलोचना  
 सुनयना 158.15  
 चारुवेश  
 सुदेशित 589.27  
 चारुशील  
 सप्परित्र 810.5  
 चारुशीला  
 सप्परित्रा 810.8  
 चारुसार  
 स्वर्ण 95.4  
 चारों आयाम  
 दिक्काल 964.16  
 चारों ओर  
 चतुर्दिशत: 29.36  
 चारों कोनों में  
 चतुर्दिशत: 29.36  
 चारों खाने बित्त होना  
 धराशायी होना 1027.12  
 चारों खाने बित्त  
 बित्त 486.27  
 चारों तरफ़  
 चतुर्दिशत: 29.36  
 चारों दिशाओं में  
 चतुर्दिशत 29.36  
 चारों युग  
 चतुर्भुज 40.11  
 चारों शाने बित्त  
 बित्त 486.27  
 चार्ज  
 चार्ज 101.7 ⇌  
 चार्ज (अं)  
 आरोप 875.7  
 कार्य भार 653.9  
 चार्ज 101.7  
 चार्ज करना  
 मूल्य निवेदन करना 664.21  
 चार्जिन  
 चार्जिन 101.8 ⇌  
 चार्जिन (प्र)  
 चार्जिन 101.8  
 चार्ज लेना  
 कार्य ग्रहण करना 653.25  
 चार्जिन (अं)  
 चार्जिन 101.8  
 चार्ट (अं)  
 मानचित्र 10.17  
 चार्टर  
 भाड़ा गाड़ी 1068.11  
 चार्टर (अं)  
 वाहन भाड़ा 622.11  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट 632.35 ⇌  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट (अं)  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट 632.35

## चार्मिक

### चार्मिक

धर्मीय 582.32

### चार्य

गुप्तधरी 866.10

दूत कर्म 443.8

### चार्वक

ऋषि मुनि सूची 789.17

राक्षस सूची 784.4

### चार्वक दर्शन

छह नास्तिक दर्शन सूची 760.29

### चार्वक पंथी

वाममार्गी 737.47

### चार्वकवाद

भोगवाद 760.21

भौतिकतावाद 760.22

### चार्वकवादी

वाममार्गी 737.47

### चार्वी

कुबेरः पत्नी सूची 779.7

धमक 287.22

बुद्धि 301.1

सुदर स्त्री 157.2

### चाल

अभिनय गति 464.22

कला शैली 397.14

कार्य विधि 514.1

कूट युक्ति 819.8

गंदी बस्ती 619.2

गति 1042.1

गतिविधि 502.2

गति शैली 1084.1

घाल 602.19 ⇌

छल 827.7

परिपाटी 514.9

पैतरा 486.20

प्रचलन 514.7

वेग 1042.9

### चालक

ऊर्जायक 101.15

कर्णधार 1080.19

घण्टू धारी 1080.20

घालक 1046.24 ⇌

पशु चालक 1082.13

प्रणोदक 1051.33

प्रणोदयिता 1051.34

प्रवर्तक 693.14

यान चालक 1079.23

संचल कर्ता 1037.21

सभा सघालक 694.20

### चालक यंत्र

इंजन 1078.1

### चालक यान

अग्रयान 1070.8

### चालक सीट

चालक सीट 595.44 ⇌

### चालघात

दौवपेच 819.11

### चाल चलन

धरित्र 810.1

### चाल चलना

कूटनीति प्रयोग करना 819.12

### चालकाल

गति शैली 1084.1

धरित्र 810.1

### चालन

आरंभण 994.4

ऊर्जायन 101.6

कर्ण धारण 1080.6

घालन 1046.2 ⇌

छनाई 1009.8

यान चालन 1079.2

सघालन 1037.5

### चालन कर्ता

घालक 1046.24

### चालना

छानना 1009.17

### चालनी

घाली 1065.5

छलनी 560.21

### चालबाज़

कुटिल 818.7

कूटनीतिज्ञ 819.16

कूट युक्ति कर्ता 819.17

गूटबाज़ 885.39

पैतरबाज़ 488.28

### चालबाज़ी

कुटिलता 818.3

छल 827.7

### चाल शैली

धारी 464.23

### चाला

कैटवाक 1065.4

गमन 1091.1

गौना 800.11

### चालाक

अति अनुभवी 303.18

कुटिल 818.7

दौषबाज़ 819.19

बुद्धिमान 301.21

युक्ति कर्ता 517.10

व्यवहार कुशल 828.10

स्निग्धभाषी 431.10

### चालाक लोमड़ी

लोमड़ी 127.79

### चालाकी

कुटिलता 818.3

कूटनीति 819.1

कूट युक्ति 819.8

तिलिस्म 474.13

युक्तिपूर्णता 517.2

### चालान

जावक पत्र 1054.7

निर्गम पत्र 1092.6

पास 622.15

प्रेषण 1054.1

वारंट 868.2

### चालान पत्र

जावक पत्र 1054.7

### चालित

ऊर्जायित 101.14

चालित 1046.23 ⇌

प्रणोदित 1051.32

संचलित 1037.20

संचालित (शस्त्र) 930.18

### चालित करना

गत्वरित करना 1046.14

### चालित्र

इंजन 1078.1

घालित्र 1046.7 ⇌

### चालिस

घालीस 948.64

### चाली

कैटवाक 1065.4

घाली 1065.5 ⇌

### चालीस

घालीस 948.64 ⇌

### चालीस का घेदा

अधेरूता 232.1

### चालीस छंदः काव्य

घालीसा 446.26

### चालीसकूँ

घेहलूम 253.11

### चालीसः समुदाय

घालीसः समुदाय 687.17 ⇌

### चालीसा

घालीसः समुदाय 687.17

घालीसा 446.26 ⇌

### चालू

अविराम 1049.10

उद्घाटित 693.11

गतिशील 1042.11

घलता [घलती] 1046.25

तारतम्यपूर्ण 1049.12

दौषबाज़ 819.19

प्रचलित 514.16

प्रचलित (बोली) 421.32

मध्यम स्तरीय 313.18

वर्तमान कालीन 36.21

संचल 1037.19

### चालू करना

अवतारण करना 1080.36

आरंभ करना 994.11

उद्घाटन करना 693.6

ऊर्जायित करना 101.12

गत्वरित करना 1046.14

### चालू खाता

घालू खाता 631.4 ⇌

### चालू रहना

दीर्घ काल तक रहना 37.6

विराम न होना 1049.6

### चालू होना

गत्वरित होना 1046.15

### चाव

इच्छा 359.1

उत्साह 491.1

प्रेम 368.1

### चाव चोचला

अत्यधिक लार 721.4

नाज़ नख़रा 860.1

### चावबी

अस्थायी स्थान 618.15

मार्गस्थ पांथशाला 1090.26

सराय 1090.33

### चावल

अनाज सूची 187.6

घावल 187.9 ⇌

घावल 962.35 ⇌

भात 202.5

हव्यात्र 753.26

### चावलः आटा

घीरेठा 192.7

### चावल-घाल भात

खिचड़ी 202.1

### चावल-सब्जी भात

पुलाव 202.2

### चाश

घाष 126.40

### चाशनी

घाशनी 280.5 ⇌

### चाशनीः उबली औषध

माजून 176.22

### चाशनीः मल

घाशनीः मल 280.6 ⇌

### चाष

घाष 126.40 ⇌

नीलकंठ 126.46

### चाष पक्षी

घाष 126.40

### चास

नीलकंठ 126.46

### चाह

अपेक्षा 359.3

अभिरुचि 400.2

आवश्यकता अनुभूति 524.8

आसक्ति 365.1

इच्छा 359.1

कूप 19.3

प्रत्याशा 375.5

प्रेम 368.1

### चाहकन

कूप उत्खनक 19.20

### चाहल

आवश्यकता अनुभूति 524.8

आसक्ति 365.1

इच्छा 359.1

उद्देश्य 508.2

प्रेम 368.1

प्रेमासक्ति 368.8

मनोवांछा 359.4

**चाहना**  
 अत्यधिक लाड करना 721.10  
 अपेक्षा करना 359.12  
 अभिरुचि होना 400.9  
 इच्छा होना 359.10  
 प्रयोजन होना 508.5  
 प्रेम होना 368.12  
 लाड करना 721.9  
 लालसा करना 359.14  
 लुब्ध होना 359.15  
 स्नेह करना 368.16

**चाहने वाला**  
 इच्छुक 359.21  
 प्रेम कर्ता 368.19  
 प्रेमी 368.2

**चाहा**  
 घहा चिरई 126.38  
 प्रेमपात्र 369.4

**चाहा [चाही]**  
 अपेक्षित 359.24  
 इच्छित 359.19

**चाहिए होना**  
 आवश्यक होना 524.13

**चाही**  
 प्रेमपात्रा 369.5

**चाहे**  
 अथवा 945.13

**चाहे अनचाहे**  
 विवशत 901.13

**चाहे ज़रूरत**  
 ठोड़ी गड्ढा 140.21

**चाहे जब होना**  
 अनियमित होना 71.7

**चाहे ज़मज़म**  
 क़ाबा: कूप 19.6

**चाहे जैसे हो**  
 क्षमतापूर्वक 487.33

**चाहे जो हो**  
 भले ही 507.19

**चाहे तो**  
 अथवा 945.13

**चाहे न चाहे**  
 विवशत 901.13

**चाहे हो**  
 भले ही 507.19

**चिंगट**  
 झींगा 124.17

**चिंगड़ा**  
 झींगा 124.17

**चिंगना [चिंगनी]**  
 मुरगी: शिशु 230.10

**चिंगरी**  
 केकड़ा 124.14

**चिंगारण**  
**चिंगारण** 107.2 ⇨

**चिंगारी**  
 क्रांति ज्वाला 903.7  
 क्रांति विस्फोट 903.8

**चिंगारी** 106.11 ⇨

**चिंगारी छोड़ना**  
 कलह करवाना 708.10

**चिंगुरना**  
 सिकुड़ना 980.17

**चिंघाड़**  
 आर्तनाद 386.3  
 घोर ध्वनि 294.6  
**चिंघाड़** 298.20 ⇨

**चिंघाड़ना**  
 आर्तनाद करना 386.17  
 घोर ध्वनि करना 294.17

**चिंघा**  
 पुत्र 718.3

**चिंजा [चिंजी]**  
 पक्षी: शिशु 230.9

**चिंजी**  
 पुत्री 718.10

**चिंतक**  
 अनुपेक्षक 184.9  
 दार्शनिक 760.3  
 निरीक्षक 284.17  
 विचारक 330.6

**चिंतन**  
 ज्ञान ध्यान 755.1  
 दार्शनिक कर्म 760.2  
 दार्शनिक प्रणाली 760.4  
 विचारक 330.6  
 विचारण 330.5  
 विवेचन 427.14

**चिंतन अनुचितन**  
 विमर्शन 330.12

**चिंतन परिचितन**  
 विमर्शन 330.12

**चिंतन मनन**  
 ज्ञान ध्यान 755.1  
 विमर्शन 330.12

**चिंतन मनन करना**  
 विमर्श करना 330.16

**चिंतनशील**  
 विचारक 330.6

**चिंतनहीन**  
 अविचारक 330.23

**चिंतनातीत**  
 अज्ञेय 306.13  
 कल्पनातीत 944.10

**चिंतनातीतता**  
 कल्पनातीतता 944.4

**चिंतनाधीन**  
 विचाराधीन 330.21

**चिंतनीय**  
 चिंतनजनक 377.12  
 विचारणीय 330.20

**चिंता**  
 अनुपेक्षा 184.2  
 आशंका 377.1  
**चिंता** 377.2 ⇨  
 चिंतानुभूति 353.3

विचारण 330.5

**चिंता करना**  
**चिंता** करना 377.6 ⇨

**चिंताकुल**  
 चिंताग्रस्त 377.10

**चिंताग्रस्त**  
**चिंताग्रस्त** 377.10 ⇨

**चिंताजनक**  
 चिंताजनक 377.12 ⇨  
 जोखिमपूर्ण 519.20

**चिंता न होना**  
**चिंता** न होना 378.5 ⇨

**चिंतानुभूति**  
**चिंतानुभूति** 353.3 ⇨

**चिंतापर**  
 चिंताशील 377.11

**चिंताप्रद**  
 चिंताजनक 377.12

**चिंतामग्न**  
 चिंताग्रस्त 377.10

**चिंतामणि**  
 ईश्वर 764.1  
**चिंतामणि** 96.18 ⇨

**चिंताशील**  
 आशंकाशील 377.9  
**चिंताशील** 377.11 ⇨

**चिंताहीन**  
 निश्चित 378.8

**चिंताहीनता:**  
 निश्चितता 378.10

**चिंताहीनता**  
 निश्चितता 378.2

**चिंतित**  
 उद्दिग्ध 377.13

**चिंतित**  
 चिंताग्रस्त 377.10

**चिंतित**  
 विचारित 330.19  
 निर्धारित 330.28

**चिंतित अनुचितित**  
 विमर्शित 330.28

**चिंतितत:**  
**चिंतितत** 377.15 ⇨

**चिंतितता**  
 उद्दिग्धता 377.4

**चिंतित होना**  
 चिंता करना 377.6

**चिंत्य**  
 चिंताजनक 377.12  
 विचारणीय 330.20

**चिंदी**  
 धज्जी 938.25

**चिंपाजी**  
**चिंपाजी** 127.93 ⇨

**चिंपाजी**  
 चिंपाजी 127.93

**चिपुंटा**  
 चींटा 122.21

**चिपुंटी**  
 चींटी 122.20

**चिक्क**  
**चिक्क** 605.11 ⇨

**चिक**  
 चिक्क 605.11

**चिकन (अँ)**  
 पक्षी मांस 206.19  
 मुरगा मुरगी मांस 206.20

**चिकनकारी**  
**चिकनकारी** 577.16 ⇨

**चिकनदोजी**  
 चिकनकारी 577.16

**चिकना**  
 कोमलांग 159.9

**चिकना [चिकनी]**  
 केश मुंडित 224.13  
**चिकना [चिकनी]** 269.22 ⇨  
 चुपड़ा [चुपड़ी] 197.18  
 फिसलन युक्त 1084.47  
 मक्खन लगा 197.20  
 मासल 154.33  
 रंदा कृत 542.16  
 रोमहीन 135.12  
 समतल 986.9  
 स्निग्ध 197.16  
 स्निग्धभाषी 431.10  
 स्निग्ध स्वभाषी 837.13

**चिकना आहार**  
 स्निग्ध आहार 197.6

**चिकनाई**  
 मोयन 196.3  
 वसा 132.4  
 स्निग्धव्य 196.1

**चिकनाईदार**  
 स्निग्ध 197.16

**चिकना करना**  
 चिकनाना 269.11  
 रंदा करना 542.9

**चिकना चुपड़ा [चिकनी चुपड़ी]**  
 स्निग्धभाषी 431.10

**चिकनाना**  
**चिकनाना** 269.11 ⇨  
 स्निग्ध भाषण करना 431.6

**चिकना पतला चमड़ा**  
 पेटेट लेदर 582.26

**चिकनापन**  
**चिकनापन** 269.7 ⇨  
 लज्जाहीनता 846.1

**चिकना बस्त्र**  
**चिकना** वस्त्र 579.5 ⇨

**चिकनाहट**  
 चिकनापन 269.7  
 फिसलाहट 1084.14

**चिकनिया**  
 शृंगार प्रेमी (पुरुष) 222.5

**चिकनियापन**  
 शृंगार प्रेम 222.4

## टिकनी

- टिकनी**  
कोमलागिनी 159.10
- टिकनी चुपकी**  
घाटुकारितापूर्ण 841.34
- टिकनी चुपकी बात**  
स्निग्ध भाषण 431.4
- टिकनी चुपकी बातें करना**  
घाटुकारिता करना 841.26
- टिकनी चुपकी बातें करना**  
स्निग्ध भाषण करना 431.8
- टिकनी तोरी**  
तोरी 189.23
- टिकबा**  
क्रसाई 206.43
- टिकित्सक**  
टिकित्सक 171.13 ⇐
- टिकित्सकीय विशेषज्ञता**  
टिकित्सा विशेषज्ञता 173.1
- टिकित्सन**  
टिकित्सन 171.8 ⇐
- टिकित्सा**  
टिकित्सा 171.1 ⇐
- टिकित्सा करना**  
टिकित्सा करना 171.16 ⇐
- टिकित्साकारिता**  
स्वास्थ्यप्रदता 181.4
- टिकित्साकारी**  
स्वास्थ्यप्रद 161.6
- टिकित्सा घुट्टी**  
रोग अवकाश 494.12
- टिकित्सातीत**  
अधिकित्स्य 171.21
- टिकित्सातीत अतिमुर्छा**  
मस्तिक मृत्यु 249.5
- टिकित्सा प्रमाण पत्र**  
टिकित्सा प्रमाण पत्र 494.13 ⇐
- टिकित्सालय**  
अस्पताल 175.5  
टिकित्सालय 175.1 ⇐
- टिकित्सा विशेषज्ञता**  
टिकित्सा विशेषज्ञता 173.1 ⇐
- टिकित्सा शास्त्र**  
आयुर्वेद 740.5
- टिकित्सित**  
टिकित्सित 171.19 ⇐
- टिकित्सीय न्यायशास्त्र**  
तिथिक टिकित्सा 173.4
- टिकित्सीय मृत्यु**  
निदानाय मृत्यु 249.3
- टिकित्सीय विशेषज्ञ**  
टिकित्सीय विशेषज्ञ 173.2 ⇐
- टिकित्स्य**  
टिकित्स्य 171.20 ⇐
- टिकुर**  
केश 137.1  
गिलहरी 127.64  
छप्पूंदर 127.68  
फुदकी 126.53
- टिकुर कलाप**  
लट 223.15
- टिकुर पाश**  
लट 223.15
- टिकोटी**  
टिकोटी 918.15 ⇐  
घुटकी 150.22  
बुहल 385.6
- टिकोटी काटना**  
टिकोटी काटना 918.26 ⇐
- टिककट**  
तेल तलछट 526.8  
फिसलन युक्त 1084.47  
मलिन 217.8
- टिककण**  
ग्लोसी (प्रिंट) 405.7
- टिककणता**  
टिकनापन 289.7
- टिककणी**  
सुपारी 213.22
- टिककस**  
उबटन 225.5
- टिकका**  
ढेला 938.41
- टिकना**  
घटपटा उपाहार 200.5  
घाट 200.11
- टिकुरना**  
नियाना 548.45
- टिकुराई**  
निराई 548.31
- टिक्याङ**  
घियाङ 298.20
- टिककी**  
किलनी 122.16  
कीट सूची 122.12
- टिकियाइट**  
टिकियाइट 298.14 ⇐
- टिकोङ**  
घघोङ 181.17
- टिकोङना**  
घघोङना 181.42
- टिजलिंग (ऑ)**  
छेनी उत्कीर्णन 406.22
- टिट**  
धज्जी 938.25  
नखः पार्श्व त्वचा 150.25  
परघा 938.28  
लिखित नोट 412.26
- टिटकना**  
घिङना 373.23
- टिटघिट**  
घटघटाइट 297.16
- टिटनवीस**  
दस्तावेज लेखक 412.24  
लिपिक 412.4
- टिट फंड**  
टिट फंड 633.13 ⇐
- टिट्टा [टिट्टी]**  
अति श्वेत 289.67
- टिट्टा**  
खरीता 444.2  
बिल 832.28  
बैलेंस शीट 832.2  
लेखा 832.1  
लेखा टिट्टा 832.22  
वर्णन साहित्य 449.3  
सूची 993.1
- टिट्टा लेखक**  
टिट्टा लेखक 632.23 ⇐
- टिट्टी**  
आज्ञापत्र 347.5  
निमंत्रण पत्र 1056.2  
न्यू टेस्टामेंट 739.12  
पत्र 444.1
- टिट्टी पत्री**  
पत्र व्यवहार 444.5
- टिट्टीरसी**  
डाकिया 444.21  
पत्र वाहक 444.18
- टिटिया**  
पत्र 444.1
- टिट्टिङ**  
घटघटाइट 297.16  
टिट्टिङाइट 373.7
- टिट्टिङ करना**  
टिट्टिङाना 373.21
- टिट्टिङा [टिट्टिङी]**  
टिट्टिङा [टिट्टिङी] 373.32 ⇐
- टिट्टिङाना**  
टिट्टिङाना 373.21 ⇐
- टिट्टिङाइट**  
टिट्टिङाइट 373.7 ⇐
- टिट्टवा**  
टिट्टवा 200.7 ⇐
- टिट्टिया**  
कटोरीः सीवन 585.70  
गौरैया 126.30  
छोटा पक्षी 126.3  
नेफ्रा 571.12  
पक्षी 126.1  
प्रलाई 571.13  
बैडमिंटन गेंद 479.12  
नादा पक्षी 126.2  
लक्ष्य चक्र 931.6
- टिट्टिया का दूध**  
असंभव घटना. उपमान सूची 75.17
- टिट्टिया की आँख**  
लक्ष्य केंद्र 931.7
- टिट्टिया खाना**  
कोलाहलपूर्णा उपमान सूची 294.33
- टिट्टिया घर**  
टिट्टिया घर 603.10
- टिट्टिया घर**  
टिट्टिया घर 603.10 ⇐
- टिट्टियाः फुदक**  
फुदक 1086.2
- टिट्टियाः शिगु**  
पक्षीः शिगु 230.9
- टिट्टिहार**  
पक्षी आघेटक 252.11
- टिट्टी**  
गौरैया 126.30  
ताश रंग सूची 479.18  
मावा पक्षी 126.2
- टिट्टी का घ्रास**  
छोटा घ्रास 181.27
- टिट्टीमार**  
पक्षी आघेटक 252.11
- टिट्टीमार का टोला**  
कोलाहलपूर्णा: उपमान सूची 294.33
- टिट्टीमारी**  
पक्षी आघेट 252.10
- टिट्ट**  
घृणा 370.2  
टिट्ट 373.9 ⇐
- टिट्टन**  
खीज 373.4
- टिट्टना**  
ईर्ष्या होना 709.3  
खीजना 373.18  
टिट्टना 373.23 ⇐
- टिट्ट निकालना**  
प्रतिशोध लेना 873.8
- टिट्टा [टिट्टी]**  
खीजा [खीजी] 373.31
- टिट्टाना**  
छेरुछाङ करना 385.12
- टित**  
अनुकृतिज 1020.12  
आपृच्छायी 1027.18  
चयन कृत 1009.18  
यित 486.27 ⇐  
धराशायी 1027.22  
प्राण तत्त्व 245.1
- टित (कुरती)**  
ऊर्ध्वमुख 1023.13
- टितकबरा [टितकबरी]**  
टितकबरा [टितकबरी] 289.75 ⇐
- टितकबरा हिरन**  
टितकबरा हिरन 127.44 ⇐
- टित करना**  
जीतना 912.12  
पटकनी खिलाना 486.24
- टितचोर**  
प्रेमपात्र 369.4  
सुंदर 157.7
- टित पट**  
टित पट 481.19 ⇐  
घृत सूची 481.2  
विपरीतता: उपमान सूची 310.1:  
शेर बकरी 476.14
- टित पटकनी**  
पटकनी 486.19



चित्रशाला [चित्रशाली]	चित्र निवृत्ति	पोर्ट्रेट 404.2	चित्रपदा
चित्रकबरा [चित्रकबरी] 289.75	तृप्ति 361.5	फोटो 405.1	मेना 126.67
चित्रबन	चित्र भूमि	वर्णन साहित्य 449.3	चित्र फलक
तिरछी चित्रबन 284.6	चित्र अवस्था 355.1	चित्र कंचल	चित्र फलक 404.31 ⇨
चित्रबन बंचल करना	चित्राग्रम	दरी 593.51	चित्र विंदु
चित्रबन बंचल करना 284.35 ⇨	ग्रम 342.1	चित्रक	चित्र विंदु 968.3 ⇨
चित्र शयन	चित्र भ्रांति	चित्र विंदु 968.3	चित्रमानु
आपृच्छ शयन 1027.3	उद्दिग्नता 377.4	चीता 127.53	शेरव गण 767.32
चित्रशापी	चित्र लगाना	चित्र कथा	सूर्य 8.1
आपृच्छशापी 1027.18	अभिमुख होना 1023.5	कीमिक्स 450.25	चित्रमानु शेरव
चित्रस्तार	चित्र विकार	चित्र कर्म	शेरव गण सूची 767.33
चित्र दीर्घा 471.21	चित्र विकार 353.2 ⇨	चित्रांकन 404.24	चित्र भाषा
चित्रस्तारी	भाव 358.1	चित्र कर्मी	चित्र भाषा 422.2 ⇨
चित्रशाला 669.12	चित्र विशिष्टता	चित्रकार 404.25	चित्र भूमिका
चित्र सोना	पागलपन 354.14	चित्रकला	पर्सपेक्टिव 404.19
पीठ के बल सोना 1027.11	चित्र विश्लेषण	कला सूची 397.12	चित्रमृग
चित्र स्थिति	मनोविरलेषण 354.18	चित्रकला 404.23 ⇨	चित्रकबरा हिरन 127.44
धराशासिता 1027.8	चित्र विग्रम	चित्रकला कर्म	चित्र में गहराई का ग्रम
पटकनी 486.19	उन्माद 354.4	चित्रांकन 404.24	ग्रम दर्शन 342.3
चित्र होना	ग्रम 342.1	चित्रकार	चित्रयुद्ध
धराशापी होना 1027.12	चित्र विश्लेषण	इलस्ट्रेटर 404.26	युद्ध अभ्यास 907.31
चित्रा	मनोविरलेषण 354.18	ईश्वर 764.1	चित्र योग
घट्टा 686.14	चित्र वृत्ति	चित्रकार 404.25 ⇨	चाँसठ कला सूची 397.4
चित्रा 254.12 ⇨	काव्य रस 455.1	चित्रकारी	चित्रयोधी
चित्रा [चित्री]	चित्रवृत्ति	चित्र 404.1	अद्वितीय योद्धा 934.16
संपाशित 667.16	चित्र अवस्था 355.1	चित्रकला 404.23	चित्ररथ
चित्रा कर्म	भाव 358.1	चित्रांकन 404.24	गंधर्व सूची 778.5
शवदाह 253.4	स्वभाव 836.4	चित्रकमेल	चित्ररथ 778.6 ⇨
चित्रानि	चित्र वैद्यकी	जिप्राफ़ 127.29	चित्रल
चित्रानि 254.13 ⇨	मनो चिकित्सा 354.2	चित्रखंड	चित्रकबरा [चित्रकबरी] 289.75
चित्रारोहण	चित्राकर्षक	चित्रांश 404.18	चित्र विंदु 968.3
सती चित्रारोहण 249.16	सुंदर 157.7	चित्रगंध	चित्रलिखित
चित्रि	चित्रि	हरताल 92.13	चित्रांकित 404.36
कोटिकरण 936.5	ऋषि स्त्री सूची 789.25	चित्रगुप्त	स्तंभन कृत 758.42
घट्टा 686.14	निष्ठा 826.1	चित्रगुप्त 256.6 ⇨	चित्रलिपि
चयन 1009.2	मुनियों 128.83	स्थपति उपमान सूची 599.3	चित्रलिपि 409.13 ⇨
समुच्चय 686.1	चित्री	चित्रगुप्तः बही	चित्र लेखनी
चितोरा [चितरेन]	उपटाव 166.3	चित्रगुप्तः बही 256.7 ⇨	तुलिका 404.33
उत्कीर्ण कर्ता 406.20	कीर्ी चित्री 479.29	चित्रगुप्तः बहीखाता	चित्रलेखा
चितोरा [चितेरिन]	धम्बा 217.2	चित्रगुप्तः बही 256.7	अप्सरा सूची 782.3
उत्कीर्ण कर्ता 406.20	चित्रीदार	चित्रग	तुलिका 404.33
चितोरा [चितेरी]	चित्रकबरा [चित्रकबरी] 289.75	चित्रकला 404.23	चित्र लोक
उत्कीर्ण कर्ता 406.20	चित्रीदार पत्थर	चित्रांकन 404.24	फ़िल्म जंगत 470.3
चित्रकार 404.25	पादपाश्म 77.4	वर्णन 449.1	चित्र विशिष्ट
चिन्	चित्रीय	चित्रणात्मक	बहुर्गंग [बहुर्गंगी] 289.70
त्रिपदाय सूची 765.11	मानसिक 351.8	वर्णनात्मक 449.23	विविध 310.8
मानसिक 351.8	चित्रीष्टिग्नता	चित्र दीर्घा	चित्रविचित्रता
चिन्	चित्रीनुवृत्ति 353.3	चित्र दीर्घा 471.21 ⇨	विविधता 310.3
व्याहृति सूची 741.24	चिस्थक	चित्र धाम	चित्र विद्या
चित्र	चीथडा 938.16	सर्वतोभद्र चक्र 407.19	चित्रकला 404.23
चेतना 263.4	चित्रय	चित्रपट	चित्रशाकापूप मध्य विकार क्रिया
मन 361.2	स्मशान 254.9	चित्र फलक 404.31	चाँसठ कला सूची 397.4
चित्र अवस्था	समाधि मंदिर 265.5	सिनेमा परदा 608.4	चित्र शार्दूल
चित्र अवस्था 355.1 ⇨	चित्र्या	चित्र पटल	चीता 127.53
चित्रज	चिता 254.12	चित्र फलक 404.31	चित्रशाल
कामदेव 773.12	चिनाई 599.24	चित्र फलक 404.31	दूर्यकला 614.25
चित्रनाथ	चित्र	चित्रपतंग	चित्रशाला
प्रेमपात्र 369.4	चित्र 404.1 ⇨	तितली 122.28	चित्रशाला 669.12 ⇨

## चित्र शिखंडिज

चित्रांकन कक्ष 814.9  
 चित्र शिखंडिज  
 बृहस्पति ग्रह 7.6  
 चित्र शिखंडी  
 सप्तर्षि मंडल 3.10  
 चित्र शिल्पी  
 चित्रकार 404.25  
 चित्रसार  
 चित्रशाला 869.12  
 चित्रसारी  
 चित्रशाला 869.12  
 चित्रसाल  
 चित्रशाला 869.12  
 चित्र: सिर के पीछे प्रकारा मंडल  
 तेजोमंडल 839.7  
 चित्रांकन  
 चित्रांकन 404.24 ⇌  
 फ़िल्मांकन 472.15  
 चित्रांकन कक्ष  
 चित्रांकन कक्ष 814.9 ⇌  
 चित्रांकन करना  
 चित्रांकन करना 404.35 ⇌  
 चित्रांकन कर्मी  
 चित्रकार 404.25  
 चित्रांकन कला  
 चित्रकला 404.23  
 चित्रांकित  
 चित्रांकित 404.36 ⇌  
 चित्रांकित चित्र  
 चित्र 404.1  
 चित्रांकित देवता  
 देवता चित्र 404.3  
 चित्रांग  
 सर्प सूची 123.16  
 चित्रांगद  
 यक्ष सूची 779.3  
 चित्रांगद [चित्रांगदा]  
 धितकबरा [धितकबरी] 289.75  
 चित्रांगद: माता  
 सत्यवती 771.95  
 चित्रांगदा  
 अर्जुन: पत्नी सूची 771.38  
 चित्रांश  
 चित्रांश 404.18 ⇌  
 चित्रा  
 नक्षत्र सूची 4.6  
 चित्राक्षी  
 मेना 126.67  
 चित्राधार  
 फलक आधार 404.32  
 चित्रायस  
 इस्पात 93.11  
 लोहा 93.7  
 चित्रालंकार  
 चित्रालंकार 454.7 ⇌  
 चित्राल  
 राज [पत्नी: फलान (भक्त) सूची 882.10

चित्रालय  
 चित्रशाला 869.12  
 चित्रिणी  
 स्त्री भेद सूची 236.6  
 चित्रित  
 चित्रांकित 404.36  
 चित्रित करना  
 चित्रांकन करना 404.35  
 चित्रीकरण  
 फ़िल्मांकन 472.15  
 चित्रेश  
 चंद्रमा 8.2  
 चित् स्वरूप ईश्वर  
 चित् स्वरूप ईश्वर 764.7 ⇌  
 चिथड़ा  
 चिथड़ा 938.16  
 धपजी 938.25  
 चिथड़ा: उदावन विद्यावन  
 गुदकी 593.46  
 चिथड़े चिथड़े करना  
 पूर्ण खंडन करना 326.10  
 चिथाकना  
 पूर्ण खंडन करना 326.10  
 लज्जित करना 845.8  
 विदीर्ण करना 544.13  
 चिवाकाशा  
 निर्गुण ब्रह्म 764.28  
 चिदानंद  
 शिव 767.1  
 चिद्रूप  
 अध्यात्मज्ञ 761.25  
 निर्गुण ब्रह्म 764.28  
 चिद्विलास  
 ईश्वरीय लीला 764.2  
 चिनक  
 चिरमिराहट 104.2  
 टिनक 386.7  
 चिनकना  
 टिनकना 386.21  
 चिनगारी  
 क्रांति ज्वाला 903.7  
 चिगारी 106.11  
 चिनगी  
 चिगारी 106.11  
 चिनचिनाना  
 खीजन 373.18  
 चिनन  
 संराशिकरण 867.4  
 चिनना  
 अत्याहार करना 182.11  
 चिनना 599.37 ⇌  
 चुन्नट डालना 975.19  
 संस्तारित करना 990.28  
 चिना [चिनी]  
 चिना [चिनी] 599.40 ⇌  
 चुन्नटदार 975.25  
 चिनाई  
 चिनाई 599.24 ⇌

चिनाई: फेंट 599.25  
 चुन्नट 975.1  
 चिनाई करना  
 अत्याहार करना 182.11  
 चिनाई: फेंट  
 चिनाई: फेंट 599.25 ⇌  
 चिनाब  
 भारत उपमहाद्वीप: नदी सूची 20.7  
 चिनाब घाटी  
 करमीर 28.31  
 चिन्मय  
 अध्यात्मज्ञ 761.25  
 ईश्वर 764.1  
 निर्गुण ब्रह्म 764.28  
 चिन्नात्र  
 केवल ज्ञान 761.5  
 चिप (अं)  
 चिपक 938.40  
 चिपक  
 चिपकन 1012.1  
 चिपकन  
 चिपकन 1012.1 ⇌  
 चिपकना  
 आलिंगन करना 237.12  
 आसक्त होना 385.3  
 चिपकना 1012.11 ⇌  
 लिपना 792.10  
 सटना 31.6  
 चिपक पदार्थ  
 चेष्य 1012.3  
 चिपका [चिपकी]  
 चिपका [चिपकी] 1012.14 ⇌  
 चिपकाई  
 चिपकाई 1012.2 ⇌  
 चिपकाक  
 चिपकाऊ 1012.15 ⇌  
 चिपकाना  
 चिपकाना 1012.12 ⇌  
 लीपना 292.11  
 चिपकाने का गोंद  
 लसदार गोंद 1012.8  
 चिपकाने वाला  
 चिपकाऊ 1012.15  
 चिपकाहट  
 चिपकन 1012.1  
 चिपकू  
 चिपचिपा [चिपचिपी] 1012.13  
 चिपचिप  
 चिपकन 1012.1  
 पिचपच 207.6  
 चिपचिपा [चिपचिपी]  
 चिपचिपा [चिपचिपी] 1012.13 ⇌  
 स्वेदित 215.31  
 चिपचिपाना  
 चिपकना 1012.11  
 चिपचिपापन  
 आर्द्रता 88.16  
 चिपकन 1012.1

चिपचिपाहट  
 चिपकन 1012.1  
 चिपटना  
 आलिंगन करना 237.12  
 चिपकना 1012.11  
 चिपटा [चिपटी]  
 चिपका [चिपकी] 1012.14  
 चिपटी टोपी  
 चपीटी 584.9  
 चिपटू  
 चिपचिपा [चिपचिपी] 1012.13  
 चिपिट  
 समतल 986.9  
 चिपिटक  
 चिक्का 200.7  
 चिपिट नौका  
 सेतुबंध नौका 1072.33  
 चिप्यक  
 चिपी 938.15  
 चिप्यट  
 चिप्यक 938.40  
 चिप्यक  
 अपिधानित 875.19  
 चिप्यक 938.40 ⇌  
 चीलन 938.19  
 चिपी  
 चिप्यक 938.40  
 चिपी 938.15 ⇌  
 टंग 417.4  
 परचा 938.28  
 चिबल  
 चुबलाई 181.16  
 चिबलाई  
 चुबलाई 181.16  
 चिबलाना  
 चुबलाना 181.41  
 चिबिड्डी  
 इक्कल चुक्कल 476.3  
 चिबिल्ला [चिबिल्ली]  
 चंचल 860.24  
 नटखट 860.27  
 चिबुक  
 ठोकी 140.20  
 चिबुक कूपिका  
 ठोकी: गड्डा 140.21  
 चिबल  
 चुबलाई 181.16  
 चिबलाई  
 चुबलाई 181.16  
 चिबलाना  
 चुबलाना 181.41  
 चिबटना  
 अलग न होना 1010.18  
 आलिंगन करना 237.12  
 चिपकना 1012.11  
 चिबटा  
 चिबटा 560.6 ⇌  
 डेअर पिन 223.13

**चिमटाना**  
चिपकाना 1012.12  
**चिमटा नोक**  
तोखा नोक 974.11  
**चिमटी**  
किलनी 122.16  
चिमटा 560.8  
हेअर क्लिप 223.11  
**चिमडना**  
अलग न होना 1010.16  
चिपकना 1012.11  
**चिमडा [चिमडी]**  
चिपका [चिपकी] 1012.14  
**चिमनी (अँ)**  
धुआँ. चिमनी 106.21  
**चिरंजीव**  
दीर्घ कालीन 37.10  
दीर्घायु 229.19  
पुत्र 718.3  
**चिरंजीविता**  
अनश्वरता 37.3  
**चिरंजीवी**  
अनश्वर 37.9  
दीर्घ कालीन 37.10  
दीर्घायु 229.19  
**चिरंटी**  
प्राप्त्योवन विवाहित स्त्री 236.8  
युवती 231.9  
**चिरंतन**  
अनश्वर 37.9  
चिर प्रचलित 514.17  
प्राचीन 63.6  
शाश्वत 37.7  
**चिरंतनता**  
शाश्वतता 37.1  
**चिर**  
अनश्वर 37.9  
दीर्घ काल 37.5  
दीर्घ कालीन 37.10  
प्राचीन 63.6  
शाश्वत 37.7  
हमेशा 1049.17  
**चिर इच्छा**  
चिर इच्छा 359.2 ⇌  
**चिर इच्छित**  
चिर इच्छित 359.23 ⇌  
**चिरकना**  
आनंदित होना 382.11  
**चिरकारी**  
स्फूर्तिहीन 492.14  
**चिरकाल**  
दीर्घ काल 37.5  
सुदूर भूत काल 36.12  
**चिरकालिक**  
दीर्घ कालीन 37.10  
**चिरकालीन**  
अनश्वर 37.9  
दीर्घ कालीन 37.10

**चिरकालीनता**  
अनश्वरता 37.3  
दीर्घ कालीनता 37.4  
**चिरकुट**  
चीथडा 938.16  
जीर्ण परिधान 583.4  
**चिरकुमार**  
आजीवन ब्रह्मचारी 234.12  
**चिरकुमारी**  
कुमारी 774.27  
पंचकन्या 774.17  
**चिरकीमार्थ**  
आजीवन ब्रह्मचर्य 234.7  
**चिरजीवन**  
दीर्घायुता 229.7  
**चिरजीवी**  
अनश्वर 37.9  
दीर्घ कालीन 37.10  
दीर्घायु 229.19  
हनुमान 781.19  
**चिरता**  
दीर्घ कालीनता 37.4  
**चिरत्र**  
चिर प्रचलित 514.17  
प्राचीन 63.6  
**चिर नवीन**  
चिर नवीन 64.12 ⇌  
**चिर नवीनता**  
चिर नवीनता 64.5 ⇌  
**चिरना**  
तडकना 544.14  
फटना 544.15  
**चिर नूतन**  
चिर नवीन 64.12  
**चिर नूतनता**  
चिर नवीनता 64.5  
**चिर परिचित**  
चिर परिचित 704.23 ⇌  
**चिर परिचितता**  
चिर परिचितता 704.9 ⇌  
**चिरपुत्र**  
मौलसिरी 13.20  
**चिर प्रचलन**  
चिर प्रचलन 514.8 ⇌  
**चिर प्रचलित**  
चिर प्रचलित 514.17 ⇌  
**चिरमिराहट**  
उष्णता 104.1  
चिरमिराहट 104.2 ⇌  
**चिरयुवा**  
चिर नवीन 64.12  
चिरयुवा 231.13 ⇌  
**चिर यौवन**  
चिर नवीनता 64.5  
चिर यौवन 231.10 ⇌  
**चिरयौवन औषध**  
चिरयौवन औषध 176.10 ⇌

**चिर यौवनपूर्ण**  
चिरयुवा 231.13  
**चिरवास**  
चिरवास 618.8 ⇌  
**चिरवासिता**  
चिरवास 618.8  
**चिरवासी**  
चिरवासी 618.32 ⇌  
**चिर वेरी**  
चिररात्रु 706.6  
**चिर शत्रु**  
चिररात्रु 706.6  
**चिररात्रु**  
चिररात्रु 706.6 ⇌  
**चिर स्थायित्व**  
अनश्वरता 37.3  
दीर्घ कालीनता 37.4  
**चिरस्थायी**  
दीर्घ कालीन 37.10  
दीर्घायु 229.19  
**चिर स्मरण**  
अविस्मरण 356.6  
**चिर स्मरणीय**  
अविस्मरणीय 356.20  
**चिरिंवा**  
चिरुचिक्का [चिरुचिक्की] 373.32  
**चिरा [चिरी]**  
विदीर्ण 544.18  
**चिराई**  
फटाई 544.6  
विदीर्णन 544.3  
**चिराकांक्षा**  
चिर इच्छा 359.2  
**चिराकांक्षित**  
चिर इच्छित 359.23  
**चिरागा**  
दीपक 285.13  
पुत्र 718.3  
**चिरागा का जित्र**  
चिरागा का जित्र 706.4 ⇌  
**चिरागा: गुल**  
गुल 106.14  
**चिरागा गुल**  
द्वेक आउट 286.3  
**चिरागो चुबड**  
प्रातः दीपक 285.15  
**चिराव**  
गरुड 777.15  
**चिरायु**  
कीआ 126.22  
दीर्घ कालीन 37.10  
दीर्घायु 229.19  
देवता 772.1  
**चिरायुष्य**  
दीर्घायुता 229.7  
**चिरेण**  
विलंबतः 495.16

**चिरिया**  
भावा पत्नी 126.2  
**चिरांडी**  
जिप्सन 100.18  
**चिरांजी**  
चिरांजी 281.15 ⇌  
**चिरारी**  
गिरुगिकाहट 350.8  
**चिरारी करना**  
गिरुगिकाना 350.13  
**चिरक**  
विच्छा 216.2  
**चिरंटी**  
ककडी 190.12  
**चिरिंटा**  
फूट 190.25  
**चिलक**  
कीथ 287.20  
टीस 392.13  
**चिलकता [चिलकती]**  
टीसता [टीसती] 392.29  
**चिलकना**  
आर्तनाद करना 386.17  
आलोकित होना 285.38  
कीथना 287.28  
टीसना 392.19  
**चिलकाना**  
उज्ज्वल करना 218.32  
**चिलगोजा**  
चिलगोजा 191.7 ⇌  
मेवा सूधी 191.2  
**चिलचिल**  
कस्तरक 126.18  
**चिलचिलाना**  
कडी गरमी होना 53.12  
**चिलका**  
शीला 202.12  
**चिलविल**  
नटखट 860.27  
**चिलविला [चिलविली]**  
चंचल 860.24  
नटखट 860.27  
**चिलविलापन**  
चंचलता 860.8  
**चिलविल्ला [चिलविल्ली]**  
नटखट 860.27  
**चिलन**  
चिलन 213.11 ⇌  
**चिलनची**  
चिलनची 679.27 ⇌  
धुकदानी 218.23  
वारा बेसिन 221.20  
**चिलमन**  
चिलमन 605.12 ⇌  
**चिलन भरना**  
घाटुकारिता करना 841.26  
**चिलनीलिका**  
पुगनु 122.22

## चिल्ड्रंस फ़िल्म (अँ)

मेघ विद्युत 55.9

चिल्ड्रंस फ़िल्म (अँ)

बाल फ़िल्म 472.8

चिल्म

धील 128.41

चिल्सर्पो

कचर पचर 294.10

चिल्साइट 373.8

चिल्सर्पो मचाना

आर्तनाद करना 386.17

चिल्सर

रेजगारी 829.23

चिल्सर्पोस

आर्तनाद 386.3

कचर पचर 294.10

चिल्साइट 373.8

चिल्सा

शालीसः समुदाय 887.17

धनुषः प्रत्यंघा 928.15

पगड़ी छोर 584.23

चिल्सा जाका

कबी सर्दी 53.2

चिल्साना

आर्तनाद करना 386.17

चिल्साना 373.22 ⇨

चिल्साइट

आर्तनाद 386.3

चिल्साइट 373.8 ⇨

चिल्सिका

धू 141.11

चिल्सी

झींगुर 122.24

चिल्होर

धील 126.41

चिबड़ा

चिड़वा 200.7

चिड्डुक

कलरव 298.8

चिड्डुकना

धीकना 379.6

चिह्न

आरंभिक लक्षण 317.6

चिह्न 407.1 ⇨

छाप 414.9

तिलक 225.19

धर्म चिह्न 407.7

पता निर्देश 444.14

पदक 857.7

पदचिह्न 867.4

प्रतीक 408.1

प्रतीक चिह्न 408.2

नार्कर 1074.28

मुद्रण छाप 419.6

मुद्रांक 414.17

संक्षेप चक्र 931.6

शकुन 262.1

सीमा चिह्न 1001.15

चिह्न करना

चिह्न करना 407.21 ⇨

चिह्नन

चिह्नन 407.2 ⇨

चिह्न लगाना

चिह्न करना 407.21

चिह्न लेखन

प्रतीक लिपि 409.11

चिह्न शास्त्र

अंग विद्या 261.34

चिह्नित

चिह्नित 407.23 ⇨

चिह्नित करना

सीमांकन करना 1001.31

चिह्नित्र

चिह्नित्र 407.3 ⇨

ची

चिधियाइट 298.14

चींगा [चींगी]

मुरगी: शिशु 230.10

चीचपड

मतभेद प्रदर्शन 338.5

चीचपड करना

मतभेद प्रदर्शन करना 338.21

चीची

चिधियाइट 298.14

चीची

मतभेद प्रदर्शन 338.5

चीटा

कोट सूची 122.12

चीटा 122.21 ⇨

चीटी

कोट सूची 122.12

चीटी 122.20 ⇨

चीटी की चाल

मंद गति 1045.2

चीटी की चाल से चलना

मंद गमन करना 1045.8

चीटी के पैर

कुलेखः उपमान सूची 412.13

चीथना

चित्रांकन करना 404.35

लिपिबद्ध करना 412.38

चीक

आर्तनाद 386.3

चीकट

तेल तलछट 526.8

भात 802.5

मलिन 217.6

चीकू

खाद्य फल सूची 190.2

चीकू 190.19 ⇨

चीख

आर्तनाद 386.3

आवाहन 1055.1

घोर ध्वनि 294.6

चीखता [चीखती]

आर्तनाद कर्ता 386.30

चीखना

आर्तनाद करना 386.17

घोर ध्वनि करना 294.17

चीख पुकार

आर्तनाद 386.3

चीखल

कीचड 214.2

चीखड़ी

किलनी 122.16

चीख

कलाकृति 397.20

चीख 193.12 ⇨

वस्तु 686.1

चीख (अँ)

चीख 193.12

चीखवस्त

चल संपत्ति 624.9

चीख वस्तु

सामान 686.3

चीख

काष्ठ सूची 597.2

चीख 13.7 ⇨

नगर वृक्ष सूची 13.2

चीका [चीकी]

चीका [चीकी] 197.36 ⇨

चीतल

चितकबरा [चितकबरी] 289.75

चितकबरा हिरन 127.44

चीतल सर्प

सर्प सूची 123.16

चीता

धीला 127.53 ⇨

चीता [चीती]

चयन कृत 1009.18

संराशित 667.16

चीत्कार

आर्तनाद 386.3

घोर ध्वनि 294.6

चीत्कार करना

आर्तनाद करना 386.17

चीथड़ा

चीथड़ा 938.16

चीथड़ा 938.16 ⇨

जीर्ण परिधान 583.4

धज्जी 938.25

चीथना

कुलेखन करना 412.39

पददलित करना 911.9

विदीर्ण करना 544.13

चीबा

उत्तम 313.13

चयन कृत 1009.18

चीन पिष्ट

सीसा 94.14

चीन माष

सोयाबीन 188.17

चीन बंग

सीसा 94.14

चीन: स्वायत्त क्षेत्र

तिब्बत 27.7

चीनाशुक

रेशमी वस्त्र 579.10

चीना बाबाय

मूंगफली 191.12

चीनी

चीनी 280.16 ⇨

चीनी करेब

त्रेप द शिन 580.8

चीनी चिकित्सा

रेकुपेचर 172.17

चीनी जाति

पीली जाति 730.10

चीनीवानी

घाय काफ़ी: बरतन सूची 680.20

चीनीपोटे

संतान समष्टि 718.2

चीनी बरतन

चीनी मिट्टी बरतन 680.9

चीनी मिट्टी

चीनी मिट्टी 100.15

चीनी मिट्टी चढ़ा टीन

चीनी मिट्टी चढ़ा टीन 94.7 ⇨

चीनी मिट्टी बरतन

चीनी मिट्टी बरतन 680.9 ⇨

चीनी मिट्टी बरतन: निर्माण

पीटरी 680.36

चीनी मिट्टी

चीनी मिट्टी 100.15 ⇨

चीनी लिपि

चित्रलिपि 409.13

चीन्हना

अभिज्ञान करना 356.16

चीपड

नेत्र मल 215.9

चीक्र (अँ)

महा प्रबंधक 655.10

चीक्र कमिश्नर (अँ)

राज्यपाल 891.3

चीक्र जस्टिस (अँ)

मुख्य न्यायमूर्ति 874.18

चीक्र मिनिस्टर (अँ)

मुख्य मंत्री 889.22

चीमड

चिपचिपा [चिपचिपी] 1012.13

चीर

कत्तर 938.6

चीवर 585.13

छाल 116.5

धज्जी 938.25

परिधान 583.1

बल्कल परिधान 583.7

वस्त्र 579.1

चीर चरम

मृग अजिन 582.13

**धीर धीर**  
विदीर्ण 544.18  
**धीर धीर करना**  
विदीर्ण करना 544.13  
**धीरना**  
आरा चलाना 564 9  
फाड़ना 544.16  
विदीर्ण करना 544.13  
**धीरना फाड़ना**  
आपरेशन करना 174 21  
**धीरपर्ण**  
साल 13 26  
**धीरफाड़**  
आपरेशन 174 3  
शल्य चिकित्सा 174 1  
शव परीक्षा 251 13  
**धीरफाड़ः आला**  
नशतर 174 20  
**धीरवास**  
वल्कलधारी 583 28  
शिव 767 1  
**धीर हरण**  
नग्नकरण 590.2  
**धीरा**  
ऋतमः जीभ धीरा 416 5  
काट 543 2  
धीरा 174 4 ⇌  
विदर 544 4  
**धीरा लगाना**  
धीरा लगाना 174.22 ⇌  
खचित करना 83 12  
**धीरा लगाने वाला**  
धीरा लगाने वाला 174 5 ⇌  
**धीरि**  
ऑख पट्टी 555 25  
**धीरिका**  
झींगुर 122 24  
**धीरी**  
झींगुर 122 24  
वल्कलधारी 583 28  
**धीर्ण**  
विदीर्ण 544 18  
**धीर्णन**  
विदीर्णन 544.3  
**धीर्णपर्ण**  
नीम 13 12  
**धील**  
धील 126.41 ⇌  
बधुआ 189 28  
**धील कोषे**  
कुलेखः उपमान सूची 412.13  
**धीला**  
धीला 202.12 ⇌  
**धीलिका**  
झींगुर 122.24  
**धीलू**  
खुबानी 191.6

**धीवर**  
उत्तरीय 585 7  
धीवर 585.13 ⇌  
परिधान 88C 1  
वल्कल परिधान 583 7  
साधु वेश 589 10  
**धीवरधारी**  
वल्कलधारी 583 28  
**धीवरी**  
बीद बिभु 790.27  
संन्यासी 790 11  
**धीस**  
टीस 392.13  
**धीसला [धीसली]**  
टीसला [टीसली] 392 29  
**धीसना**  
टीसना 392 19  
**धीकी नाका**  
धुकी नाका 1064.10 ⇌  
**धीगल**  
धिकोटी 918 15  
घुटकी 150 22  
दबोध 888 8  
पंजा 150 23  
**धीगल भर**  
अत्यल्पत 942 24  
**धीगी**  
धुगी कर 647 15  
धुगी चौकी 647.16  
घुटकी 150 22  
नगर सभा 892 10  
**धीगी कचहरी**  
नगर सभा 892 10  
**धीगी कर**  
धुगी कर 647.15 ⇌  
**धीगी चोर**  
धुगी तस्कर 864 42  
**धीगी चोरी**  
धुगी तस्करी 864 41  
**धीगी चौकी**  
धुगी चौकी 647 16 ⇌  
**धीगी तस्कर**  
धुगी तस्कर 864.42 ⇌  
**धीगी तस्करी**  
धुगी तस्करी 864 41 ⇌  
**धीगी द्वार**  
धुगी द्वार 647 17 ⇌  
**धीगी नाका**  
धुगी द्वार 647 17  
**धीगी पारपत्र**  
धुगी पारपत्रे 647.18 ⇌  
**धीगी भर**  
अत्यल्पतः 942.24  
**धीगी मुंशी**  
धुगी मुंशी 647.35 ⇌  
**धीटा**  
कूप निकट हीज़ 18.15  
छोटा कूप 19.4

**धीटाई**  
धिकोटी 918.15  
**धीटा**  
कूप निकट हीज़ 18.15  
छोटा कूप 19 4  
**धीडी**  
पुरुष शिखा 137.11  
**धीदरी**  
धुत्री 585 14  
**धीवी**  
पुरुष शिखा 137.11  
**धीधा [धीधी]**  
अदूरदर्शी 302 13  
धुंधा [धुंधी] 164.10 ⇌  
**धीधियाता [धीधियाती]**  
घकाचीध पूर्ण 287 35  
**धीबक**  
धीबक पत्थर 1050 8  
**धीबक आकर्षण**  
धीबकता 1050 7  
**धीबकता**  
धीबकता 1050.7 ⇌  
सम्मोहकता 367 3  
**धीबक पत्थर**  
धीबक पत्थर 1050.8 ⇌  
**धीबक वृत्ति**  
अपूर्ण पठन 321 30  
**धीबक शक्ति**  
धीबकीय बल 1050 6  
**धीबकीयता**  
धीबकता 1050 7  
**धीबकीय बल**  
धीबकीय बल 1050.6 ⇌  
**धीबन**  
धीबन 237.9 ⇌  
**धीबन करना**  
धीबन करना 237 13 ⇌  
**धीबन कर्ता**  
धीबन कर्ता 237.19 ⇌  
**धीबन लेना**  
धीबन करना 237.13  
**धीबी**  
धीबन कर्ता 237 19  
**धीबन**  
आव 83.3  
आव 1032.1  
**धीआ [धीई]**  
खचित 1032 26  
**धीआई**  
आवण 1032.2  
आवण 83.4  
**धीआन**  
उत्प्लोत 21.1  
नहर 23 3  
**धीआना**  
आसवन करना 82.5  
मद्य आसवन करना 82.6  
खचित करना 83.12

**धीआया [धीआई]**  
आसयित 82 7  
खचित 1032.26  
**धीआव**  
आवण 1032.2  
**धीकंधर**  
साग सष्ठी सूची 189 4  
**धीकनुकाना**  
आव होना 1032 16  
**धीकटी**  
धिकोटी 918 15  
धुकटी 559.43 ⇌  
प्रालंबन सूची 1024.5  
**धीकता**  
भुगतान कृत 634.25  
मूल्य प्रदत्त 664.29  
**धीकता करना**  
भुगतान करना 634 19  
मूल्य देना 664.22  
**धीकतान**  
भुगतान 634 3  
**धीकताना**  
भुगतान करना 634.19  
**धीकन**  
समाप्ति 942.6  
**धीकना**  
समाधान होना 334 9  
समाप्त होना 942 12  
सीदा तय होना 658 12  
**धीकरु**  
घकोर 126.33  
**धीकरंड**  
धीनुहा सौंप 123 12  
**धीका [धीकी]**  
समाधान कृत 877.24  
समाप्त 942 20  
**धीकाई**  
भुगतान 634 3  
मूल्य प्रदान 664 9  
**धीकाना**  
ऋण मोचन करना 633.29  
भुगतान करना 634 19  
विवाद समाधान करना 877.20  
**धीकाने वाला**  
भुगतान कर्ता 634 26  
**धीकाया**  
भुगतान कृत 634.25  
**धीकिया**  
गैजिया 664.8  
**धीकीली**  
ऋण मोचन 633.8  
भुगतान 634.3  
**धीकक**  
कुल्हक 664.7  
**धीक**  
कौजी 208 13  
धुक 277.13

## चुक्रिका

### चुक्रिका

इमली 277.8

### चुक्रिम

खट्टा [खट्टी] 277.19

### चुक्रिमा

खटास 277.1

### चुगन

उंच कर्म 548.26

चुगन 526.9 ⇨

चुगाई 181.15

चुगाई 1009.7

### चुगना

कम खाना 182.12

चुगना 1009.16 ⇨

चुग्गा लेना 181.40

### चुगलफोर

चुगलफोर 843.26 ⇨

### चुगलफोरी

चुगलफोरी 843.11 ⇨

### चुगाली

चुगाली 843.10 ⇨

### चुगाली करना

चुगाली करना 843.19 ⇨

### चुगाली खाना

चुगाली करना 843.19

### चुगालीफोर

चुगलफोर 843.26

### चुगस

चुगन 526.9

### चुगा

चुग्गा 181.29

पशु पक्षी आहार 556.1

### चुगा [चुगी]

चुगा [चुगी] 1009.21 ⇨

### चुगाई

उंच कर्म 548.26

चुगाई 1009.7 ⇨

चुगाई 181.15 ⇨

### चुग्गा

आखेट चारा 252.6

चुगन 526.9

चुग्गा 181.29 ⇨

छोटा घास 181.27

पशु पक्षी आहार 556.1

### चुग्गा डालना

लुब्ध करना 359.16

### चुग्गा भर

अत्यल्पत 942.24

### चुग्गा लेना

चुग्गा लेना 181.40 ⇨

### चुडुआना

जाव होना 1032.16

### चुटक चुटक

उपाहार 200.1

### चुटकुला

चुटकुला 450.26

### चुटकुलेबाणी करना

चुटकुलेबाणी करना 385.11

### चुटकी

अल्प काल 38.4

क्लिप 417.3

थिकोटी 918.15

चुटकी 150.22 ⇨

चुटकी 296.2 ⇨

चुटकुला 450.26

चुहल 385.6

छोटा घास 181.27

भिक्षात्र 842.7

विनोदोक्ति 385.3

हास्य रचना 450.23

### चुटकी बजाते

शीघ्रतः 496.13

### चुटकी भर

अत्यल्पतः 942.24

### चुटकुला

चुटकुला 450.26 ⇨

### चुटकुला छोड़ना

चुटकुलेबाणी करना 385.11

### चुटकुलेबाणी

चुटकुलेबाणी 385.5 ⇨

### चुटकुलेबाणी करना

चुटकुलेबाणी करना 385.11 ⇨

### चुटपुट

उपाहार 200.1

### चुटर चुटर

उपाहार 200.1

### चुटिया

पुरुष. शिखा 137.11

देणी 223.17

शिखा 137.10

### चुटीलना

चुटीलना 223.10 ⇨

### चुटीला

चुटीलना 223.10

### चुटीला [चुटीली]

सुभनशील 270.18

### चुटेल

आहत 168.6

### चुटिया दूटना

विधवा होना 804.24

### चुकिहार

चुकिहार 228.12 ⇨

### चुकिहारा [चुकिहारी]

चुकिहार 228.12

### चुईल

चांडालनी 254.11

डाकिनी 786.7-

भूतनी 786.2

### चुत्थलपना

विनोद प्रेम 385.2

### चुनक

ठिनक 386.7

### चुनचुनाना

खीजना 373.18

ठिनकना 386.21

### चुनत

चुनत 975.1

### चुनन

चुगन 526.9

चुनत 975.1

### चुननवार

चुनतदार 975.25

### चुनना

चयन करना 1009.13

चुनत डालना 975.19

छाँटना 1009.15

निर्वाचित करना 888.31

### चुनरिया

चुनी 585.14

### चुनरी

चुनी 585.14

लाल जमीन: छाँट 578.10

### चुनवाना

चयन करवाना 1009.14

### चुनस

चुगन 526.9

### चुनीधे

इस लिए 507.10

### चुना [चुनी]

अति कुटिल 818.8

उत्तम 313.13

गण्य 852.9

चयन कृत 1009.18

धिना [धिनी] 599.40

चुगा [चुगी] 1009.21

निर्वाचित 888.34

### चुनाई

चयन 1009.2

चुगाई 1009.7

### चुनाखा

परकार 956.7

### चुनाना

चयन करवाना 1009.14

### चुनाव

चयन 1009.2

निर्वाचन 888.1

मतदान 888.16

वर चयन 799.30

### चुनाव आयोग

निर्वाचन आयोग 888.12

### चुनाव कमीशन

निर्वाचन आयोग 888.12

### चुनाव मैदान में आना

निर्वाचन लड़ना 888.29

### चुनाव लड़ना

निर्वाचन लड़ना 888.29

### चुनावी

निर्वाचन विषयक 888.33

### चुनिदा

उत्तम 313.13

चयन कृत 1009.18

### चुनी वस्तु: संग्रह

सुविध संग्रह 889.6

### चुने

गण्य 852.9

### चुने जाना

निर्वाचित होना 888.30

### चुनीटी

चुनीटी 213.27 ⇨

### चुनीली

चुनीली 917.1 ⇨

धमकी 373.12

### चुनीली देना

चुनीली देना 917.4 ⇨

### चुनीलीपूर्ण डोट

धमकी 373.12

### चुनीलीपूर्वक

चुनीलीपूर्वक 917.11 ⇨

### चुनीली स्वीकारना

चुनीली स्वीकारना 917.9 ⇨

### चुनत

घूँ 586.28

चुनत 975.1 ⇨

### चुनत डालना

चुनत डालना 975.19 ⇨

### चुनतदार

चुनतदार 975.25 ⇨

### चुनी

अनाज: खंड 192.1

ओढ़नी 585.9

चुनी 585.14 ⇨

वेक्रांत 96.27

### चुनु चुनु

शिशु जन 230.2

### चुप

निरुत्तर 335.10

मीन 429.22

### चुप करना

मीन करना 429.15

### चुपका [चुपकी]

मीनावलंबी 429.23

### चुपके चुपके

ध्वनिहीनतः 295.6

मीनतः 429.29

### चुपके से चले जाना

चुपचाप पलायन करना 916.11

### चुपचाप

ध्वनिहीनतः 295.6

मीनतः 429.29

### चुपचाप पलायन

चुपचाप पलायन 916.2 ⇨

### चुपचाप पलायन करना

चुपचाप पलायन करना 916.11 ⇨

### चुपचाप पलायित

चुपचाप पलायित 916.20 ⇨

### चुप चुप

मीनतः 429.29

### चुपकन

चुपकाई 197.7

### चुपकना

चाटुकारिता करना 841.26

**चुपड़ना** 197.15 ⇨  
**चुपका** [चुपकी]  
 चुपड़ा / चुपड़ी 197.18 ⇨  
 स्त्रिय 197.16  
**चुपकाई**  
 चुपड़ाई 197.7 ⇨  
**चुप रहना**  
 उत्तर न देना 335.5  
 न कहना 429.12  
 मौन रहना 429.13  
**चुप रहने वाला**  
 मीनायलबी 429.23  
**चुप होना**  
 मौन होना 429.14  
**चुप्पा** [चुप्पी]  
 मौन 429.22  
 मीनायलबी 429.23  
**चुप्पी**  
 अनुसर 335.1  
 मौन भाव 429.3  
**चुप्पी साधना**  
 मौन रहना 429.13  
**चुबल**  
 चुबलाई 181.16  
**चुबलना**  
 पपोलना 181.47  
**चुबलाई**  
 चुबलाई 181.16 ⇨  
**चुबलाना**  
 चुबलाना 181.41 ⇨  
**चुभकना**  
 बार बार चुबकी लगाना 1031.22  
**चुभकी**  
 चुबकी 1031.10  
**चुभता** [चुभती]  
 चुभनशील 270.18  
 टीसता [टीसती] 392.29  
 तीक्ष्ण 270.19  
 पीड़ाप्रद 392.26  
 हृदय भंजक 391.34  
**चुभता सवाल**  
 ज्वलंत समस्या 333.12  
**चुभन**  
 चुभन 270.1 ⇨  
 तीक्ष्णता 270.6  
**चुभन (बे.)**  
 गड़न 1016.3  
**चुभनशील**  
 चुभनशील 270.18 ⇨  
 तीक्ष्ण 270.19  
**चुभना**  
 अप्रिय होना 370.3  
 कटाक्ष लगाना 844.8  
 चुभना 270.11 ⇨  
 टीसना 392.19  
**चुभलाई**  
 चुबलाई 181.16

**चुभलाना**  
 चुबलाना 181.41  
**चुभा** [चुभी]  
 चुभा [चुभी] 270.17 ⇨  
**चुभाना**  
 गड़ाना 1016.38  
**चुभकार**  
 चुंभन 237.9  
 जोत यान चलाना 1079.3  
 पुचकार 393.8  
 लांड़ प्यार 721.6  
**चुभकारना**  
 जोत यान चलाना 1079.18  
 पुचकारना 393.14  
**चुभकार पुचकार**  
 पुचकार 393.8  
**चुम्मा**  
 चुंभन 237.9  
**चुम्मी**  
 चुंभन 237.9  
**चुरकना**  
 आनंदित होना 382.11  
**चुरकुट**  
 घृणित 540.15  
**चुरकुस**  
 घृणित 540.15  
**चुरना**  
 चोरी होना 864.43  
**चुरलू**  
 जादुई लकड़ी 474.5  
**चुरस**  
 कपड़ा शिकन 975.8  
**चुरा** [चुरी]  
 चुरा [चुरी] 864.51 ⇨  
**चुराई**  
 चौर्य वृत्ति 864.1  
**चुराना**  
 आड़ करना 605.15  
 गुप्ततः करना 824.15  
 गोपन करना 824.14  
 चोरी करना 864.44  
**चुराया** [चुराई]  
 चुरा [चुरी] 864.51  
**चुरट**  
 सिंगार 213.8  
**चुलचुली**  
 खुजली 165.3  
**चुलबुला** [चुलचुली]  
 बंचल 860.24  
**चुलबुलावन**  
 बंचलता 860.8  
**चुलाई**  
 मद्य आसवन 82.2  
 सावण 1032.2  
**चुलाना**  
 मद्य आसवन करना 82.6  
**चुलाब**  
 तहरी 202.3

**चुलुपी**  
 सूँस 124.12  
**चुल्लू**  
 अजलि पात्र 150.3  
**चुल्लू भर**  
 अत्यल्पतः 942.24  
**चुल्हा**  
 चुल्हा 109.6  
**चुलकी**  
 कश 213.15  
**चुलकी 207.4** ⇨  
 चुषण 181.18  
**चुलकी लेना**  
 स्वाद आनंद लेना 275.12  
**चुलनी**  
 चुलनी 684.2 ⇨  
 स्तनाग्र 146.9  
**चुला** [चुली]  
 चुला [चुली] 181.68 ⇨  
**चुलाई**  
 अवशोषण 1002.10  
 चुषण 181.18  
**चुलीया**  
 चुसने वाला 181.58  
**चुलीवल**  
 चुषण 181.18  
**चुस्त**  
 अनाजः छिलका 116.6  
 आलस्यहीन 493.12  
 कसा [कसी] 1013.25  
 छिलका 116.6  
 तंग [परिधान] 583.27  
 लक्ष्मणी 301.33  
 बुद्धिमान 301.21  
 भुना मांस 206.18  
 स्फूर्त 491.13  
**चुस्त चुकस्त**  
 स्वस्थ 161.5  
**चुस्ता**  
 शिकन 975.7  
**चुस्ती**  
 अथकान 493.5  
 स्फूर्ति 491.2  
**चुस्ती फुरती**  
 स्फूर्ति 491.2  
**चुस्ती से**  
 आलस्यहीनत 493.16  
 स्फूर्तिपूर्वक 491.18  
**चुहँटी**  
 थिकोटी 918.15  
**चुहचुहाता** [चुहचुहाती]  
 जावशील 83.17  
**चुहचुहाता**  
 आनंदित होना 382.11  
 जाव होना 1032.16  
**चुहचुहिया**  
 चरखी झूला 1034.10

**चुहल**  
 चुहल 385.6 ⇨  
 विनोद 385.1  
**चुहलबाण**  
 चुहलबाण 385.14 ⇨  
**चुहलबाणी**  
 विनोद प्रेम 385.2  
**चुहिया**  
 चुहिया 127.61 ⇨  
**चू**  
 क्यो 507.9  
 चरखी झूला 1034.10  
 मतभेद प्रदर्शन 336.5  
**चू करना**  
 मतभेद प्रदर्शन करना 336.21  
**चूचना**  
 चुसना 181.46  
**चूचपक**  
 मतभेद प्रदर्शन 336.5  
**चूचपक करना**  
 मतभेद प्रदर्शन करना 336.21  
**चूचू**  
 कलरव 298.8  
 मतभेद प्रदर्शन 336.6  
 मादा पक्षी 126.2  
**चूचू करना**  
 मतभेद प्रदर्शन करना 336.21  
**चूचू का चुरन्ना**  
 कोलाहलपूर्वकः उपमान चुची 294.33  
 विविध सामग्रीः उपमान चुची 689.5  
**चूट**  
 थिकोटी 918.15  
**चूटना**  
 थिकोटी काटना 918.26  
 लुपित करना 1017.6  
**चूक**  
 असफल लक्ष्य 931.5  
 असावधानी 498.1  
 लीड़ा लक्ष्य अप्राप्ति 475.25  
 चूक 277.13 ⇨  
 भूल 498.3  
 मार्गध्युति 1089.2  
 लक्ष्य चूक 931.12  
**चूक झला**  
 भूल चूक 498.2  
**चूक जाना**  
 लक्ष्य ध्युत होना 931.19  
**चूकना**  
 अवसर उपभोग न करना 70.12  
 असावधान होना 498.4  
 लक्ष्य ध्युत होना 931.19  
**चूक होना**  
 भूल होना 498.5  
**चूका** [चूकी]  
 लक्ष्य ध्युत 931.23  
**चूची**  
 चुसनी 684.2  
 स्तनाग्र 146.9

## यूयुआन

स्त्री स्तन 146.7

## यूयुआन

अति आर्द्र 88.28

## युयुक

युसनी 684.2

स्तनाग्र 146.9

## युयुहाना

जाव होना 1032 18

## यूया

पक्षी मांस 206 19

पक्षी: शिशु 230.9

मुरगा मुरगी मांस 206.20

मुरगी: शिशु 230 10

## यूका

कड़ा 228.6

कलगी 140.5

चंद्रशाला 614 24

बांडाल 254.10

यूका 802.12 ⇨

जूका 223.14

पर्वत शिखर 18.11

मस्तक 140.12

मुरगा: कलगी 140 8

मोर: कलगी 140.7

शिखर 982.6

शिखा 137.10

## यूकाकरण

मुंडन संस्कार 798.18

## यूका कर्म

मुंडन संस्कार 798.18

सोलह संस्कार सूची 798 3

## यूकामणि

उत्तम 313.13

उत्तमता: उपमान सूची 313 4

यूकामणि 228.10 ⇨

## यूकियाँ

सुहाग धिन्नु सूची 803.15

## यूकी

बांडालनी 254.11

यूकी 228.11 ⇨

यूकी 975.4 ⇨

पेच: यूकी 1016.20

यूकी (दे. पेच: यूकी)

उच्चक्रिल रेखा 968 15

## यूकी चकाना

पेच कसन 1016.41

## यूकीवार

यूकीवार 975.26 ⇨

पेचदार 1016.49

## यूकीवार कीस

पेच 1016 19

## यूला [यूली]

खावशील 1032.27

## यून

आटा 192.3

## यून बबारा

यून बबारा 670.20 ⇨

## यूनम

यूना 290.22

यूना पत्थर 99.4

## यूनर

युत्री 585.14

लाल जमीन: छोट 578.10

## यूनरी

युत्री 585.14

## यूना

यूना 290.22 ⇨

टपकना 1032.20

पान मसाला सूची 213.20

जाव होना 1032.18

## यूना छतरना

पाखंड अनावृत होना 822.19

## यूना कल्या: बरतन

युनीटी 213.27

## यूना पत्थर

यूना पत्थर 99.4 ⇨

## यूना पुता

यूना पुता 291.20 ⇨

## यूना पुताई

यूना पुताई 291.5 ⇨

## यूना मसाला

वेपथ्य सूची 1012 4

## यूनी

अनाज: खंड 192 1

यूर 526.11

## यून युमकार

लाइ प्यार 721.6

## यूनना

यूनन करना 237.13

## यूमाचाटी

यूनन 237 9

## यूर

यूरमा 192.12

यूरा 938 17

यूर्णित 540 15

दल्लीन 331.14

बहुत थका 492 16

मदीन्त 211.15

## यूर यूर करना

यूरा करना 540.8

## यूरन

यूरन 176.16 ⇨

यूरा 938 17

## यूरमा

यूरमा 192.12 ⇨

यूरमा 203.12 ⇨

## यूरा

अनाज: खंड 192.1

यूरमा 192 12

यूरा 938.17 ⇨

## यूरा करना

यूरा करना 540.8 ⇨

रेतना 542.11

## यूरी

अनाज: खंड 192.1

## यूर्ण

आटा 192.3

यूरन 176.16

यूरा 938.17

यूकनी 201.4

यूर्ण आदि छिन्नकाव

यूरकाव 688.12

यूर्ण करना

पीसना 540 14

## यूर्णन

यूर्णन 540.1 ⇨

पिसाई 540.6

## यूर्णाग्रम

यूना पत्थर 99.4

## यूर्णित

यूर्णित 540.15 ⇨

पिसा [पिसी] 540 21

## यूल

यूल 609.15 ⇨

## यूल कीला

यूल दंड 609 16

## यूल कुंडा

भेंवर कुंडा 1077 19

## यूल टेक

यूल टेक 609.17 ⇨

## यूल दंड

यूल दंड 609.16 ⇨

## यूल नलिका

यूरा 1077 20

## यूल सिलंडर

यूरा 1077.20

## यूलिका (प्र)

यूरा 1077 20

## यूली (प्र)

यूरा 1077 20

## यूल्ला

यूल्ला 109 6 ⇨

यूल्ला चौका 195 2

## यूल्ला गैस

रसोई गैस 110.2

## यूल्ला चकई

यूल्ला चकई 195.16 ⇨

## यूल्ला चौका

यूल्ला चौका 195.2 ⇨

## यूल्ला मोड़

यूल्ला मोड़ 974.12 ⇨

## यूल्ले पर चक़ा

यूल्ले पर चक़ा 195.62 ⇨

## यूल्ले पर चक़ाना

यूल्ले पर चक़ाना 195.47 ⇨

## यूचक

यूसने वाला 181.58

## यूचण

चतुर्विध भोजन सूची 181.7

यूचण 181.18 ⇨

## यूचण (दे.)

अवशोषण 1002.10

## यूचण आहार

चोथ्यम 186.4

## यूचित

यूससा [यूसी] 181.68

## यूस

अवशोषण 1002 10

यूसकी 207 4

यूचण 181 18

## यूसन

यूचण 181 18

## यूसना

अवशोषित करना 1002.20

यूसना 181 46 ⇨

पपोलना 181 47

शोषण करना 627.15

## यूसने वाला

यूसने वाला 181.58 ⇨

## यूसू

यूसने वाला 181 58

## यूहा

गणेश वाहन 773 27

यूहा 127 60 ⇨

सूखा नासिका मल 215 18

## यूहादान

यूहादान 603.18 ⇨

## यूही

घुहिया 127 61

## यूहेखानी

बिल्ली 127 56

## यूहेदान

यूहादान 603 18

## यूहेदानी

यूहादान 603 18

## येंध

बकवास 428 7

## येंदुआ

पक्षी शिशु 230 9

## येंध

बकवास 428 7

## येंध करना

मतभेद प्रदर्शन करना 338 21

## येंकितान

महाज्ञानी 305 31

## येगा

यहा चिरई 126.38

## येचक

येचक 163.9 ⇨

## येचक नाई

शीतला 774.91

## येजारा

राजगीर 599 20

## येज़िग (अं)

खचन 406.27

## येट

येट 467.15 ⇨

दास 651.8

नीड 473 16



**चेदक**  
 कुटना 807.10  
 चेल प्रदर्शन 473.2  
 चेट 487.15  
 जापू 474.2  
 जार 808.5  
**चेदकी**  
 बापीगर 473 18  
**चेदिका**  
 दासी 651.10  
**चेटी**  
 दासी 651.10  
**चेदित्यार**  
 सेठ 628 8  
**चेत**  
 चेतना 263.4  
 बुद्धि 301.1  
 बोध 301.9  
 संभवतः 68.19  
 सावधानी 497.1  
 स्मृति 356 1  
**चेतकी**  
 चमेली 14.16  
**चेतन**  
 अनुप्राणित 1046 31  
 आत्मा 763 1  
 चलन 121.16 ⇨  
 जागरूक 301 34  
 जाग्रत 265 7  
 जीव 121 4  
 जीवित 246 13  
 श्वासयुक्त 245.23  
 सावधान 497 4  
 स्फूर्त 491 13  
**चेतन अचेतन जगत**  
 जगु चेतन जगत 78 1  
**चेतनकर**  
 ऊर्जायक 101 15  
**चेतन करना**  
 अनुप्राणित करना 1046 19  
**चेतन जगत**  
 चेतन जगत 78 2 ⇨  
 चेतन जगत 121.1 ⇨  
**चेतन जगत (दे.)**  
 चेतन जगत 78.2  
**चेतनस्तः**  
 चेतनस्तः 263.14 ⇨  
**चेतन तत्त्व**  
 प्राण तत्त्व 245.1  
**चेतनता**  
 स्फूर्ति 491.2  
**चेतन पदार्थ**  
 जीव द्रव्य 129.1  
**चेतन मन**  
 चेतन मन 352.2 ⇨  
**चेतना**  
 अनुभूति 263.1  
 आंतरिक ज्ञान 305 4

**इड 352.4**  
 इड हीना 373.15  
 चेतना 263.4 ⇨  
 चेतना लाभ होना 283.9  
 जागना 265.5  
 बोध प्राप्ति 301.11  
 शारीरिक बल 160.2  
 संचलता 1037.3  
 सावधान होना 497.3  
 स्फूर्ति 491.2  
**चेतना आना**  
 चेतना लाभ होना 263 9  
**चेतना खोना**  
 चेतना खोना 264.14 ⇨  
**चेतना घात**  
 मूर्च्छा 264 5  
**चेतना धारा**  
 स्मृति प्रवाह 352 13  
**चेतना न होना**  
 चेतना न होना 264 13 ⇨  
**चेतना में**  
 चेतनत 263 14  
**चेतनायुक्त**  
 चेतनायुक्त 263.12 ⇨  
**चेतना लाभ**  
 चेतना लाभ 263.6 ⇨  
**चेतना लाभ होना**  
 चेतना लाभ होना 263.9 ⇨  
**चेतना शक्ति**  
 मन 351.2  
**चेतनाहरण**  
 चेतनाहरण 264 3 ⇨  
**चेतना हरना**  
 चेतना हरना 264.15 ⇨  
**चेतनाहीन**  
 चेतनाहीन 264.20 ⇨  
 स्फूर्तिहीन 492 14  
**चेतनाहीनतः**  
 चेतनाहीनतः 264.24 ⇨  
**चेतनाहीनता**  
 चेतनाहीनता 264.2 ⇨  
 मूर्च्छा 264.5  
**चेतनाहृत**  
 चेतनाहृत 264.21 ⇨  
**चेतना होना**  
 चेतना होना 263.8 ⇨  
 जीवनयुक्त होना 246 10  
**चेतनीकरण**  
 ऊर्जायन 101 6  
**चेत बाहिनी**  
 चेता 131 14  
**चेता**  
 चेता 131.14 ⇨  
**चेता [चेती]**  
 लब्धचेता 263 13  
**चेताना**  
 चेतावनी देना 917.10  
 धनकाना 373.26

**चेतावनी**  
 चुड़की 373.8  
 चेतावनी 917.2 ⇨  
 धनकी 373.12  
 नोटिस 875.16  
 संकटः संकेत 909.9  
**चेतावनी देना**  
 चेतावनी देना 917.10 ⇨  
**चेतावनी संकेत**  
 संकटः संकेत 909.9  
**चेता विकार**  
 चित्त विकार 353.2  
**चेता विभंग**  
 हिम्मत पत्ती 189.7  
**चेतिनी (प्र)**  
 चेता 131 14  
**चेविपति**  
 शिशुपाल 771 91  
**चेदिराज**  
 शिशुपाल 771.91  
**चेन (अं)**  
 लड़ी 228 38  
 शृंखला 569 26  
 सौकला 609.23  
**चेन कुप्पी**  
 चैन कुप्पी 1062.15 ⇨  
**चेन स्टिच**  
 चैन स्टिच 572.11 ⇨  
**चेन स्टिच (अं)**  
 चैन स्टिच 572.11  
**चेप**  
 कचलोहू 167 15  
 गाका रस 84 4  
 गोद 1012 7  
 धिपकम 1012 1  
 टीका औषध 176 29  
**चेपदार**  
 धिपधिपा [धिपधिपी] 1012 13  
**चेपन**  
 धिपकाई 1012 2  
**चेपव्य**  
 चेषव्य 1012.3 ⇨  
**चेपव्य सूची**  
 चेषव्य सूची 1012 4 ⇨  
**चेपा**  
 फर्फूद 549.9  
**चेपी**  
 चिप्पी 938 15  
**चेयर**  
 पदवी 652.1  
**चेयर (अं)**  
 कुरसी 595.23  
**चेयरमैन (अं)**  
 अध्यक्ष 652 14  
 नगर सभा अध्यक्ष 892.11  
 राष्ट्रपति 882.2  
 सभापति 694.1A

**चेल**  
 परिधान 583.1  
 वस्त्र 579.1  
**चैला**  
 धर्म दीक्षित 742.25  
**चैला [चैली]**  
 प्रशिषु 321 47  
 शिष्य 323.24  
**चैलागीरी**  
 शिष्य माव 323.25  
**चेन्दा**  
 अंग मुद्रा 464.33  
 अनुभाव 358 6  
 प्रयत्न 489 1  
**चेन्दा शास्त्र**  
 चेन्दा शास्त्र 262.6 ⇨  
**चेन्दाहीन**  
 अप्रयत्नशील 490.9  
**चेन्दाहीनतः**  
 अप्रयत्नत 490 15  
**चेन्दाहीनता**  
 अप्रयत्न 490 1  
**चेन्दिट**  
 प्रयत्नित 489 8  
**चेन्टी**  
 प्रयत्नशील 489 9  
**चेहरा**  
 अग्रभाग 994 9  
 मुख मडल 140.11  
 मुखटा 589 20  
**चेहरा दिखाना**  
 परदा न करना 590 15  
**चेहरा मोहरा**  
 मुख मडल 140 11  
 हुलिया 317 11  
**चेहलरुदमी**  
 चेहलरुदमी 1084 7 ⇨  
 मंद गति 1045 2  
**चेहलुम**  
 चेहलुम 253 11 ⇨  
 मृत्पु भोज सूची 183.11  
**चैबर (अं)**  
 कमरा 614 1  
 न्यायाधीश कक्ष 874 12  
**चैक**  
 चैक 631.10 ⇨  
**चैक (अं)**  
 चैक 631.10  
**चैक पोस्ट**  
 चैक पोस्ट 866.5 ⇨  
**चैक पोस्ट (अं)**  
 चैक पोस्ट 866.5  
**चैक मुक**  
 चैक मुक 415.21 ⇨  
**चैकर्स**  
 चैकर्स 478.4 ⇨  
**चैकर्स (अं)**  
 चैकर्स 478.4

## चैत

**चैत**  
चैत्र 43 7  
**चैतन्य**  
ईश्वर 764.1  
चित् स्वरूप ईश्वर 764 7  
चेतना 283.4  
**चैतन्यपुस्तक**  
चेतनायुक्त 283 12  
**चैतन्यहीन**  
जड़ 78 23  
**चैतन्यहीनता**  
जड़ता 78 4  
**चैती**  
चैती 457.31 ⇨  
रबी फ़सल 547 8  
वसंत कालीन 52 3  
होली गीत 57 33  
**चैत्य**  
जैन मंदिर 745.37  
जैन मठ 745 11  
देव मंदिर 745 30  
देव मूर्ति 746 1  
बुद्ध मूर्ति 746.5  
बौद्ध भिक्षु 790.27  
बौद्ध मंदिर 745 39  
यज्ञ शाला 753 18  
समाधि मंदिर 745 40  
समाधि मंदिर 255 5  
स्तूप 255 10  
**चैत्यद्व**  
पीपल 13 14  
**चैत्य लेख**  
क़ाब लेख 254 20  
**चैत्य विहार**  
जैन मठ 745 11  
बौद्ध मठ 745 12  
**चैत्य स्थान**  
पवित्र स्थान 745 1  
**चैत्र**  
चैत्र 43 7 ⇨  
देव मंदिर 745.30  
देव मूर्ति 746 1  
बौद्ध भिक्षु 790.27  
भारतीय मास सूची 43 6  
वसंत काल 52 1  
**चैत्र 1 (चांद्र विक्रमी)**  
नव वर्ष सूची 42 19  
**चैत्रक**  
चैत्र 43 7  
**चैत्र गीत**  
चैती 457 31  
**चैत्र पुर्णिमा**  
कामोत्सव 773 20  
**चैत्ररथ**  
कुबेर उपवन 779 9  
**चैत्ररथ वन**  
देवता उद्यान सूची 772 13

**चैत्र वैशाख**  
वसंत काल 52 1  
**चैत्र शुक्ल तृतीया**  
गनगीर 57 6  
**चैत्र शुक्ल नवमी**  
राम नवमी 57 22  
**चैत्रसख**  
कामदेव 773 12  
**चैद्य**  
शिशुपाल 771.91  
**चैन**  
राहत 171 12  
विग्राम काल 494 2  
सुख 390.2  
सुरक्षा 908 4  
**चैन आना**  
राहत मिलना 171.18  
**चैन करना**  
विलास करना 363.12  
**चैन न होना**  
आतुर होना 496.7  
उद्विग्न होना 377 7  
**चैनल (ऑ)**  
चौड़ी जलप्रीया 24 11  
टेलीविज़न चैनल 472.26  
**चैन से**  
विलंबत 495 16  
**चैनुआ**  
पक्षी शिशु 230 9  
**चैन्टर (ऑ)**  
अध्याय 447 2  
**चैरिटी (ऑ)**  
धर्मार्थ दान 641 8  
**चैरिटी शो**  
चैरिटी शो 468.7 ⇨  
**चैरिटी शो (ऑ)**  
चैरिटी शो 468 7  
**चैलक**  
बौद्ध भिक्षु 790 27  
**चैला**  
पच्चड़ 938.27  
**चैलिक**  
वस्त्र कटपीस 579 23  
**चैली**  
पच्चड़ 938.27  
**चैस बॉर्ड (ऑ)**  
शतरंज बिसात 479 35  
**चैस्ट (ऑ)**  
छोटी अलमारी 671 2  
सदुक्रयी 676 18  
**चौगा**  
नलवा 684 3  
बॉस पोला भाग 597 9  
**चौगी**  
नलवा 684 3  
बॉस पोला भाग 597.9  
**चौब**  
अगला झुकाव 1073 21

**चौब**  
चौब 143.5 ⇨  
जुलाफ़ 588.34  
बरतन: चौब 680.23  
बरतन: टोंटी 680.24  
**चौबदार कटोरा**  
चौबदार कटोरा 683.2 ⇨  
**चौबदार घड़ा**  
जग 679.14  
**चौब प्रहार**  
चौब प्रहार 918.14 ⇨  
**चौब भर**  
अत्यल्पत 942 24  
**चौबला**  
अत्यधिक लाड़ 721.4  
नाज़ नख़रा 860.1  
**चौबले करना**  
नाज़ नख़रा करना 860.12  
**चौबलेबाज़ी**  
नाज़ नख़रा 860.1  
**चौंडा**  
जटा 137.7  
**चौंध**  
पशु पिच्छा 216.6  
**चौंधर**  
सुंधा [सुंधी] 164.10  
**चौंप**  
गाढ़ा रस 84.4  
गोद 1012.7  
वृक्ष निर्यास 84 8  
**चौआ**  
तराजू पासंग 962.25  
**चौई**  
अनाज: छिलका 116.8  
छिलका 116.6  
दाल: छिलका 116.9  
मृत्यु शत्क 134.18  
**चौईदार दाल**  
अनधुली दाल 188.6  
**चौकर**  
अनाज छिलका 116.8  
बूर 526 11  
**चौका**  
खरा [खरी] 98 12  
विशुद्ध 219.7  
**चौखना**  
धूसना 181.46  
**चौखा**  
भरता 201 18  
**चौखा [चौखी]**  
उत्तम 313 11  
खरा [खरी] 98.12  
प्रवीण 303.22  
विशुद्ध 219.7  
सत्यतापूर्ण 820.20  
स्वच्छ 218.33  
**चौखा रंग**  
पक्का रंग 289 26

**चौगा**  
गाउन 585.48  
चौगा 585.22 ⇨  
**चौगा**  
लबादा 585.19  
**चौबला**  
अत्यधिक लाड़ 721 4  
**चौबले उठाना**  
अत्यधिक लाड़ करना 721.10  
**चौबलेबाज़ी**  
अत्यधिक लाड़ 721.4  
**चौण**  
घनत्कारोक्ति 434.9  
**चोट**  
अपकार 831 4  
अहित 712.2  
आहति 168 1  
ठेस 1051.17  
ठोंक 1051.15  
ठोकर 1084 10  
दुःख 391 1  
प्रहार 918.1  
रोग आक्रमण 169.1  
ग्रण 167 12  
शोक 383 1  
हानि 646 7  
**चोट करना**  
आहत करना 168.5  
कटाक्ष करना 844.7  
**चोट खाना**  
ठोकर लगना 1084.33  
**चोट खाया [चोट खाई]**  
आहत 168.6  
**चोट चपेट**  
आहति 168.1  
**चोट पहुँचाना**  
अपकार करना 831.9  
आहत करना 168.5  
**चोट रक्षक ओट**  
परकोटा: अड़दब 604.16  
**चोटड़ा [चोटड़ी]**  
आहत 168.6  
**चोटा**  
घासनी. मल 280.6  
**चोटी**  
उच्चता. उपमान सूची 982.13  
कलगी 140.5  
पर्यंत शिखर 16.11  
पुरुष. शिखा 137.11  
भदन शिखर 611.1  
देगी 223.17  
शिखर 982 6  
शिखा 137.10  
**चोटी कतरना**  
दास बनाना 651.24  
**चोटी का**  
उत्तम 313.13

**चोटी गुंघाई**  
सिर गुंघाई 800.50  
**चोटी बबना**  
वशाधीन होना 901.5  
**चोटी बबाना**  
वशाधीन करना 901.6  
**चोटीधारी**  
शिखाधारी 137.23  
**चोटी पर**  
उच्चतः 982 12  
पराकाष्ठा पर 534 16  
**चोटी पोटी**  
घाटुकारितापूर्ण 841 34  
**चोटी बाला**  
उच्चतम 982 8  
भूत 786 1  
शिखाधारी 137 23  
**चोटी हथ में आना**  
वशाधीन करना 901 6  
**चोट्टा**  
चोर 864 3  
**चोट्टी**  
चोरनी 864 4  
**चोडक**  
कुरता 585 33  
**चोडी**  
कुरती 585 37  
**चोध**  
पशु विष्ठा 216 6  
**चोप**  
उत्साह 491.1  
वृक्ष निर्यास 84.8  
**चोपन**  
स्पदन 1039 2  
**चोब**  
छड़ी 923 3  
उंडा 923 5  
डोल डग्गा 461 96  
तंबू खंभा 600 24  
धातु मैकी लाठी 923.10  
सोंटा 559.37  
**चोबदस्त**  
मूठदार उंडा 923 6  
**चोबदस्ती**  
मूठदार उंडा 923.6  
**चोबदार**  
छड़ीबरदार 930 10  
द्वार. पहरेदार 908.13  
**चोबा**  
धातु मैकी लाठी 923 10  
लीह कील 1016 14  
सोंटा 559.37  
**चोबिया**  
चोबिया 1016.16 ⇨  
बतारा कील 1016.11  
**चोना**  
कोचनी 555.22  
संक पट्टी 104.7

**चोपा**  
दाल. छिलका 116.9  
**चोया उत्तराई**  
चोया उत्तराई 542.6 ⇨  
**चोया उत्तरी दाल**  
धुली दाल 188.5  
**चोया उतारना**  
चोया उतारना 542 14 ⇨  
**चोर**  
चोर 864 3 ⇨  
बेईमान 816.5  
सेधमार 864.17  
**चोरः अख्खा**  
चोर. अड़डा 864.6 ⇨  
**चोर ओखें**  
तिरछी चितवन 284 6  
**चोर उघक्का**  
चोर उघक्का 864 5 ⇨  
**चोर कर्म**  
चौर्य वृत्ति 864 1  
**चोर खाना**  
चोर खाना 671.21 ⇨  
**चोर गख्ढा**  
आखेट गख्ढा 252.24  
**चोर गली**  
अधी गली 1063 50  
मियानी 586 21  
**चोर चकार**  
चोर 864 3  
चोर उघक्का 864.5  
**चोर जमीन**  
बलुआ दलदल 25 29  
**चोरटा**  
चोर 864.3  
**चोरटी**  
चोरनी 864 4  
**चोर ठग**  
चोर उघक्का 864 5  
**चोर ताला**  
चोर ताला 609.25 ⇨  
**चोर दरवाजा**  
गुप्त द्वार 608 2  
**चोर दलदल**  
बलुआ दलदल 25.29  
**चोरनी**  
चोरनी 864.4 ⇨  
**चोर पत्ता**  
छिपा पत्ता 479.20  
**चोर बवभासा**  
चोर उघक्का 864 5  
**चोर बाजार**  
चोर बाजार 865 12 ⇨  
**चोर बाजारिया**  
चोर बाजारिया 865 13 ⇨  
**चोर बाजारी**  
चोर बाजारी 865.11 ⇨  
**चोर रास्ता**  
गुप्त मार्ग 1065.2

**चोर रेत**  
बलुआ दलदल 25.29  
**चोर वृत्ति**  
चौर्य वृत्ति 864.1  
**चोरः सरदार**  
चोर सरदार 864.7 ⇨  
**चोर सिपाही**  
ओख मिथोनी 476 2  
**चोरहटिया**  
चोरी का माल दुकानदार 661.12  
**चोराडोब**  
अति आर्द्र 88 28  
संसिक्त 1008.29  
**चोरी**  
गुप्तता 824 2  
गोपन 824 1  
चोरी घटना 864 2  
छद्म 824 9  
**चोरी करना**  
चोरी करना 864.44 ⇨  
**चोरी कर्ता**  
चोर 864.3  
**चोरी का काम**  
गुप्त कार्य 824.5  
**चोरी का मालः दुकानदार**  
चोरी का माल दुकानदार 661.12 ⇨  
**चोरी का माल विक्रय**  
चोरी का माल विक्रय 661.6 ⇨  
**चोरीः घटना**  
चोरी घटना 864.2 ⇨  
**चोरी चकारी**  
चौर्य वृत्ति 864.1  
**चोरी चोरी**  
गुप्ततः 824 29  
**चोरी छिपे**  
गुप्ततः 824.29  
ध्वनिहीनतः 295 6  
**चोरी जाना**  
चोरी होना 864 43  
**चोरी पकड़ना**  
अपराध खोलना 866.19  
**चोरी पकड़े जाना**  
अपराध खुलना 866 18  
**चोरीः माल**  
चोरी माल 864.8 ⇨  
**चोरीः माल खरीदार**  
चोरी माल खरीदार 864.9 ⇨  
**चोरी से**  
गुप्ततः 824.29  
**चोरी होना**  
चोरी होना 864.43 ⇨  
**चोरों की तरह**  
गुप्ततः 824 29  
**चोल**  
चोला 585.24  
चोली 585 38  
बल्कल परिधान 583.7

**चोलक**  
कवच 921 2  
कुरती 585 37  
चोली 585 38  
**चोलकी**  
कवचधारी 921.15  
**चोलद्री**  
छोटा तंबू 600 20  
**चोलना**  
साधुः चोता 585.23  
**चोला**  
उरोभाग 585.71  
चोला 585.24 ⇨  
शरीर 139 1  
**चोला छूटना**  
मरना 249 18  
**चोला परिवर्तन**  
ऊपरी परिवर्तन 532.6  
**चोला बदलना**  
पुनर्जन्म होना 248.9  
**चोली**  
उरोभाग 585.71  
चोली 585.38 ⇨  
त्रा 587.5  
झाउज 585 45  
**चोली दामन**  
जोड़ा सूधी 583.17  
**चोली दामन का साथ**  
अदृष्ट संबंध 715 3  
**चोली मार्ग**  
याममार्ग 737.46  
**चोल्दी**  
मार्गस्थ पांचशाला 1090.26  
सराय 1090 33  
**चोषण**  
घूषण 181 18  
**चोष्यम**  
घतुर्विध आहार सूधी 186.3  
चोष्यम 186.4 ⇨  
**चौक**  
चौक 379.3 ⇨  
**चौकना**  
चौकना 379 6 ⇨  
हिचकना 501 6  
**चौका [चौकी]**  
आश्चर्यित 379.8  
**चौकाने वाला**  
विलक्षण 312 16  
**चौटना**  
चिकोटी काटना 918.26  
**चौध**  
चकार्थ 287.21  
**चौध**  
चौक 379.3  
**चौर**  
चामर 85.28  
**चौरि**  
चामर 85.28

## चौंसठ कला

चुटीलना 223.10  
रस्ती सूची 570.8  
सुरागाय 127.49  
**चौंसठ कला**  
चौंसठ कला 397.3 ⇨  
चौंसठ कला सूची  
चौंसठ कला सूची 397.4 ⇨  
**चौ**  
घार 948.23  
चौथा [चौथी] 948.90  
**चौआ**  
घार: समुदाय 687.6  
**चौक**  
ऑगन 604.4  
आवास चौक 619.4  
खेल कोर्ट 482.7  
चतुर्भुज 989.4  
चौक चित्र 404.10  
चौराहा 1084.5  
चौसर विसात 479.34  
बाज़ार 663.1  
भीतर वाला ऑगन 604.6  
महल्ला 619.6  
शहरी सड़क 1063.37  
**चौक: चित्र**  
चौक: चित्र 404.10 ⇨  
**चौकठा**  
चौखटा 604.9  
**चौकडा**  
घार समुदाय 687.6  
चौघडा 679.46  
**चौकडा [चौकडी]**  
घार खंडीय 938.55  
**चौकडी**  
अश्वगति सूची 1084.24  
कुलोंच 1084.6  
घार समुदाय 687.6  
चौकडी घाल 1084.25  
छलोंग 1086.10  
हुत गति 1044.2  
मित्र चौकडी 705.6  
**चौकडीघर**  
अड्डा 696.10  
**चौकडी घाल**  
चौकडी घाल 1084.25 ⇨  
**चौकडीबाज़**  
अड्डेबाज़ 696.25  
**चौकडीबाज़ी**  
अड्डेबाज़ी 696.9  
**चौकडा [चौकडी]**  
सावधान 497.4  
**चौकडापन**  
सावधानी 497.1  
**चौकडा होना**  
सावधान होना 497.3  
**चौकस**  
उत्तम 313.11  
घेतनायुक्त 263.12

जागरूक 301.34  
जाग्रत 285.7  
युद्ध सन्नद्ध 907.43  
सावधान 497.4  
स्वस्थ 181.5  
**चौकसी**  
पर्यवेक्षण 284.21  
पहरा 908.5  
युद्ध सन्नद्धता 907.5  
संरक्षा 908.3  
सावधानी 497.1  
**चौकसी करना**  
पहरेदारी करना 908.18  
**चौका**  
चकला 580.4  
चतुर्भुज 989.4  
चतुर्भुज पाषाण पटल 990.20  
चुल्हा चौका 195.2  
चौक: चित्र 404.10  
चौका 475.32 ⇨  
चौघडा 679.46  
जोत: चौका 1071.33  
पटल 990.3  
पाषाण पटल 990.19  
रसोई घर 195.1  
**चौकी**  
उपदेश मच 745.42  
ऊँचा पटरा 595.15  
चकला 560.4  
घार समुदाय 687.6  
चुगी चौकी 647.16  
चौकी 595.17 ⇨  
डाइनिंग टेबल 595.35  
देवोपहार 183.24  
पटरी 595.16  
पहरा 908.5  
पहरा चौकी 908.6  
रोशन चौकी 461.9  
वादन स्थल 461.5  
सेना चौकी 933.9  
सेंटर टेबल 595.40  
**चौकीदार**  
ग्राम पहरेदार 908.12  
द्वार: पहरेदार 908.13  
पहरेदार 908.9  
**चौकोन**  
चतुर्भुज 989.4  
**चौकोना [चौकोनी]**  
चतुर्भुजाकार 969.14  
**चौकोर**  
चतुर्भुजाकार 969.14  
वर्गाकार 969.17  
**चौकोर उपवन**  
चौकोर उपवन 12.17 ⇨  
**चौकोर गठरी**  
चौकोर गठरी 674.3 ⇨  
**चौकोर बाा**  
चौकोर उपवन 12.17

**चौकोर भवन**  
चौकोर भवन 602.8 ⇨  
**चौकोर मंडप**  
चौकोर मंडप 600.9 ⇨  
**चौकोर स्तंभ**  
चौकोर स्तंभ 607.9 ⇨  
**चौखंडा**  
चौघडा 679.46  
**चौखंडा [चौखंडी]**  
घार खंडीय 938.55  
**चौखट**  
चतुर्भुज 969.4  
चौखट 609.1 ⇨  
म्रोता: गृह 601.3  
**चौखट: अधोकाष्ठ**  
चौखट: अधोकाष्ठ 609.3 ⇨  
**चौखट: आधार**  
चौखट: अधोकाष्ठ 609.3  
**चौखट: पार्श्व**  
चौखट: पार्श्व काष्ठ 609.4  
**चौखट: पार्श्व काष्ठ**  
चौखट: पार्श्व काष्ठ 609.4 ⇨  
**चौखट: शीर्ष काष्ठ**  
चौखट: शीर्ष काष्ठ 609.2 ⇨  
**चौखटा**  
कड़ाई फ्रेम 562.21  
चतुर्भुज 969.4  
चौखट 609.1  
चौखटा 604.9 ⇨  
भुजाकृति 969.2  
मुख मंडल 140.11  
**चौखन**  
घार खंडीय 938.55  
**चौखना [चौखनी]**  
घार खंडीय 938.55  
**चौखैट**  
चतुर्दिशत: 29.36  
सर्वतोमुखी 29.29  
**चौखैटा [चौखैटी]**  
चतुर्भुजाकार 969.14  
**चौगडा**  
खरगोश 127.63  
**चौगडाडा**  
घार: समुदाय 687.6  
**चौगडडी**  
घार समुदाय 687.6  
**चौगान**  
ढोल डग्गा 461.96  
पोलो 477.7  
**चौगानगाह**  
चौगान मैदान 482.16  
**चौगान मैदान**  
चौगान मैदान 482.16 ⇨  
**चौगानी**  
निगाली 213.13  
**चौगिर्द**  
चतुर्दिशत: 29.36

**चौगुना**  
चौगुना 949.45 ⇨  
**चौगुना [चौगुनी]**  
चौगुना 949.45  
**चौगुनिया**  
सीकीदार स्टूल 613.8  
**चौघडा**  
चौघडा 679.46 ⇨  
मसालदानी 676.12  
**चौघडिया**  
सीकीदार स्टूल 613.8  
**चौघडी**  
मसालदानी 676.12  
**चौघेव**  
खटराग 747.4  
**चौड**  
मैदान 11.1  
वन: बीच मैदान 11.4  
**चौडा [चौडी]**  
चौडाई युक्त 965.11  
मोटा [मोटी] 965.12  
विस्तीर्ण 981.10  
विस्फारित 119.12  
**चौडाई**  
घार आयाम सूची 964.13  
चौडाई 965.4 ⇨  
तीन आयाम सूची 964.10  
दो आयाम सूची 964.7  
नदी पाट 25.12  
मोटाई 965.8  
वस्त्र चौडाई 579.20  
विस्तीर्णता 981.1  
**चौडाई युक्त**  
चौडाई युक्त 965.11 ⇨  
**चौदान**  
चौडाई 965.4  
विस्तीर्णता 981.1  
**चौदानपन**  
चौडाई 965.4  
**चौडा मस्तक**  
चौडा मस्तक 158.3 ⇨  
**चौडा मार्ग**  
चौडी सड़क 1063.35  
**चौडा मुँह: खाकी**  
चौडा मुँह: खाकी 24.8 ⇨  
**चौडा रेलपथ**  
ब्रीड गेज 1066.16  
**चौडी काट**  
पडी काट 543.4  
**चौडी खपरैल**  
निचली खपरैल 599.34  
**चौडी जलप्रीया**  
चौडी जलप्रीया 24.11 ⇨  
**चौडी टिंगनी बोटल**  
कुप्पी 678.9  
**चौडी सड़क**  
चौडी सड़क 1063.35 ⇨

**चौड़े घंटे वाला पोत**  
 बार्ज 1072.36  
**चौड़े मस्तक वाला**  
 चौड़े मस्तक वाला 158.13 ⇨  
**चौड़े में**  
 अगुप्यतः 822.34  
**चौतरफ़ा [चौतरफ़ी]**  
 सर्वतोमुखी 29.29  
**चौतररा**  
 चबूतरा 610.6  
**चौताल**  
 चौताल 458.42 ⇨  
**चौताला**  
 होली गीत 57.33  
**चौथ**  
 चतुर्थांश 949.20  
 चतुर्थी 44.10  
 विजित धन 864.28  
**चौथ चचूली**  
 धन जय 864.26  
**चौथा**  
 चौथा 253.9 ⇨  
**चौथा [चौथी]**  
 चौथा [चौथी] 948.90 ⇨  
**चौथा आयाम**  
 चतुर्थ आयाम 964.15  
**चौथाई**  
 चौथाई 949.39 ⇨  
**चौथाई साइज़**  
 चौथाई साइज़ 961.5 ⇨  
**चौथाई साइज़**  
 चौथाई साइज़ 961.5  
**चौथा पन**  
 वृद्धता 232.2  
**चौथा पहर**  
 दिन चौथा पहर 49.6  
**चौथा भाग**  
 चतुर्थांश 949.20  
**चौथा वर्ण**  
 शुद्ध 731.28  
**चौथी**  
 कैंगना खुलाई 800.5  
**चौथे महीने के बाद गर्भ पतन**  
 गर्भपात 241.6  
**चौथे महीने तक गर्भ पतन**  
 गर्भस्त्राव 241.5  
**चौदस**  
 चतुर्दशी 44.20  
**चौदह**  
 चौदह 948.46 ⇨  
**चौदहः उपमान सूची**  
 चौदहः उपमान सूची 948.47 ⇨  
**चौदहवीं**  
 चतुर्दशी 44.20  
**चौदहवीं की रात**  
 पूर्णिमाः रात 48.6  
**चौदहों लोकों में**  
 चतुर्दिशतः 29.36

**चौधराइट**  
 प्रताप 849.5  
 प्रधानता 852.3  
 हेकड़ी 734.10  
**चौधरी**  
 मुखिया 852.7  
**चौप (औं)**  
 टिकका 206.38  
**चौपाई**  
 चौपाई 452.13  
**चौपट**  
 कुशासनपूर्ण 894.8  
 नष्ट 531.7  
 विस्फारित 119.12  
 समतल 986.9  
**चौपटता**  
 कुशासन 894.3  
**चौपक**  
 चौपड़ 478.6 ⇨  
**चौपत**  
 तह 975.15  
**चौपतिया**  
 प्रचार पत्र 442.6  
**चौपथ**  
 घीराहा 1064.5  
**चौपन्ना**  
 फ़ोल्डर 442.8  
**चौपनी**  
 फ़ोल्डर 442.8  
**चौपहला [चौपहली]**  
 चतुर्पाश्वीय 997.15  
 सर्वतोमुखी 29.29  
**चौपहलू**  
 चतुर्पाश्वीय 997.15  
 चतुष्कलक 977.21  
**चौपहिया गाड़ी**  
 चतुर्थक यान 1070.5  
**चौपाई**  
 चौपाई 452.13 ⇨  
**चौपाटी**  
 बेला पथ 1066.12  
 समतल भूमि 986.3  
 समुद्री बेला तट 25.22  
**चौपाया**  
 चतुष्पद जीव 121.11  
 पशु 127.1  
**चौपाल**  
 पंचायत घर 695.4  
**चौपेरी**  
 कुलोंघ 1084.6  
**चौफेर**  
 चतुर्दिशत 29.36  
**चौबंदी**  
 अंगरखा सूची 585.29  
**चौबाई**  
 चतुर्दिक पवन 85.19  
**चौबारा**  
 चंद्रशाला 614.24

चुन चबारा 670.20  
 छत. कक्ष 614.23  
**चौबीस कैरट स्वर्ण**  
 शुद्ध स्वर्ण 95.5  
**चौबीसवीं तीर्थंकर**  
 महावीर 792.4  
**चौबीसः समुदाय**  
 चौबीसः समुदाय 687.15 ⇨  
**चौबीसी**  
 चौबीस. समुदाय 687.15  
**चौबीसों घंटे**  
 पूरे दिन 1049.21  
**चौबुज़ा**  
 चौबुज़ी 611.8  
**चौबुज़ी**  
 चौबुज़ी 611.8 ⇨  
**चौभर**  
 दाढ़ 144.7  
**चौभासा**  
 घातुर्मास 618.11  
 वर्षा काल 54.1  
**चौमुख**  
 चतुर्दिशतः 29.36  
 सर्वतोमुखी 29.29  
**चौमुखा [चौमुखी]**  
 सर्वतोमुखी 29.29  
**चौमुहाना**  
 घीराहा 1064.5  
**चौमेखा**  
 कूसः मृत्यु दंड 871.4  
 कूस यंत्र 871.10  
**चौरंधी**  
 घीराहा 1064.5  
**चौरस**  
 चतुर्भुजाकार 969.14  
 समतल 986.9  
**चौरसपन**  
 समतलता 986.1  
**चौरस मैदान**  
 मैदान 11.1  
 ममतल भूमि 986.3  
**चौरसा**  
 चौरसा 559.19 ⇨  
**चौरसी**  
 चौरसा 559.19  
**चौरस्ता**  
 घीराहा 1084.5  
**चौरा**  
 चबूतरा 610.6  
 पचायत घर 695.4  
 लोबिया 189.33  
 समाधि चबूतरा 255.3  
**चौरासी लाख योनियों**  
 जीव जगत 121.3  
**चौराहा**  
 घीराहा 1064.5 ⇨  
 रोड आईलैंड 1084.7

**चौरठा**  
 चौरठा 192.7 ⇨  
**चौर्य**  
 चौर्य वृत्ति 864.1  
**चौर्य कृति**  
 चौर्य कृति 397.30 ⇨  
**चौर्यता**  
 चौर्य वृत्ति 864.1  
**चौर्य बाधना**  
 घोर्योन्माद 354.7  
**चौर्य वृत्ति**  
 चौर्य वृत्ति 864.1 ⇨  
**चौर्योन्माद**  
 घोर्योन्माद 354.7 ⇨  
**चौल**  
 मुंडन संस्कार 798.18  
**चौला**  
 थिरुवा 200.7  
**चौलाई**  
 चौलाई 189.20 ⇨  
 साग सखी सूची 189.4  
**चौलाई**  
 चतुर्दिक पवन 85.19  
**चौसर**  
 चौपड़ 478.6  
**चौसर बिसाल**  
 चौसर बिसाल 479.34 ⇨  
**चौहट्टा**  
 घीराहा 1064.5  
 बाज़ार 663.1  
**चौहदी**  
 परकोटा 604.11  
 परिसीमा 1001.8  
**चौहरा [चौहरी]**  
 घोगुना 949.45  
**च्यवन**  
 ऋषि मुनि सूची 789.17  
 स्त्राव 1032.1  
**च्यवनशील**  
 स्त्रावशील 1032.27  
**च्यायन**  
 स्त्रावण 1032.2  
 स्त्रावण 83.4  
**च्यायन करना**  
 ऋषित करना 83.12  
**च्युत**  
 च्युत 653.36 ⇨  
 जाति निर्वासित 870.28  
 लक्ष्य च्युत 931.23  
 विस्थापित 1036.13  
 ऋषित 1032.26  
 हस्त 531.11  
**च्युत करना**  
 च्युत करना 653.27 ⇨  
**च्युति**  
 असावधानी 498.1  
 जाति निर्वासन 870.11  
 पतन 1031.1

## च्युत

बहिष्कार 870 13  
भूल 498 3  
मार्गच्युति 1099 2  
लक्ष्य चूक 931 12  
सेवा च्युति 653 15  
साय 1032 1  
हास 531 3

## च्युत

आम वृक्ष 13 5

## छ

### छंकार

छनछनाहट 297 18

### छंगुनिया

छंगुलिया 150 20

### छंगुलिया

छंगुलिया 150.20 ⇨

### छंगुली

छंगुलिया 150 20

### छंटन

छंटन 526 10 ⇨

### छटना

फटना 544 15

### छंटनी

छंटनी 653 16 ⇨

छंटाई 1009 6

विसैन्धीकरण 906 8

### छंटनी करना

विसैन्धीकरण करना 906.11

### छंटयाना

घयन करवाना 1009 14

### छंटस

छंटन 526 10

### छंटा [छंटी]

अति कुटिल 818 8

कर्तित 543 14

घुगा [घुगी] 1009 21

छंटा [छंटी] 1009 20 ⇨

दौवबाज़ 819 19

सक्षिप्त 980 24

साराशित 449 30

### छंटाई

कटाई छंटाई 543 7

छंटाई 1009.6 ⇨

सक्षेपण 980 5

साराशन 449 13

### छंटेल

अति कुटिल 818 8

छंटा [छंटी] 1009 20

### छंद

छंद 452 1 ⇨

छन कहाई 800 16

छन काव्य 796 24

वेदांग सूची 740 41

### छंद अंश

काव्य पदार्थ 452 47

### छंदकार

कवि 448 13

### छंद गति

छंद गति 452.35 ⇨

### छंद दोष

छंद दोष 452 34 ⇨

### छंद पूर्ति

काव्य समस्या पूर्ति 694.13

### छंद बंद

छल 827.7

### छंदबद्ध

छंदबद्ध 452.53 ⇨

### छंदबद्ध काव्य

पद्य 451 4

### छंदबद्धता

नियमितता 71 2

### छंदबद्ध पद्य

छंदबद्ध पद्य 451.5 ⇨

### छंद भंग

छंद दोष 452 34

### छंद भ्रंश

छंद दोष 452 34

### छंद मात्रक

छंद माप 452 37

### छंद मात्रा

छंद मात्रा 452.38 ⇨

### छंद माप

छंद माप 452 37 ⇨

### छंदमुक्त

छंदहीन 452 54

### छंदमुक्त पद्य

छंदमुक्त पद्य 451 6 ⇨

### छंद यति

छंद यति 452 36 ⇨

### छंदयुक्त पद्य

छंदबद्ध पद्य 451 5

### छंद वर्ण

छंद वर्ण 452 41 ⇨

### छंद शास्त्र

छंद शास्त्र 452 32 ⇨

### छंद संतुलन

छंद संतुलन 452 33 ⇨

### छंदस्कृत

वेद 740 22

वेद मंत्र 741 5

### छंदहीन

छंदहीन 452.54 ⇨

### छंदहीन काव्य

गद्य 451 2

### छंदोश

काव्य पदार्थ 452 47

### छंदित

छंदबद्ध 452.53

### छंदी

छली 827 24

### छंदीय

छंदीय 452.52 ⇨

### छंदोग

साम गायक 741 13

### छः

छह 948.27

### छः श्रुत सूची

छः श्रुत सूची 51.15 ⇨

### छः खंडा [छः खंडी]

छह खंडीय 938.56

### छः खंडीय

छह खंडीय 938 56

### छः पीढ़ी ऊपर नीचे: संबंध

संपिडता 729 7

### छ

छह 948.27

### छकंडा [छकंडी]

छह खंडीय 938.56

### छक कर

तृप्तत 361 19

### छक कर खाना

भरपेट खाना 182 10

### छकड़ा

अप्रबल 488.14

अबलिष्ट 159 12

छह समुदाय 687.8

जर्जर 536 11

जर्जर गाड़ी 1071 31

ठेला 1071 6

बैलगाड़ी 1071 42

शिथिलकाय 159 15

### छकड़ा [छकड़ी]

छह खंडीय 938 56

शिथिल 1045 13

### छकड़ी

छकड़ी 478.12 ⇨

छह-समुदाय 687 8

### छकड़ेयान

गाड़ीयान 1079 9

### छकना

तृप्त होना 361 11

परेशान होना 519 16

प्रतिफल भोगना 510 8

भरपेट खाना 182 10

भोगना 363 9

### छका [छकी]

तृप्त 361 16

भरे पेट वाला 182 13

### छकाछक

तृप्तत 361 19

भरपेट 182 17

### छकाना

तृप्त करना 361 12

### छकाव

तृप्ति 361 5

### छकंडा

बरतन सैट सूची 680.19

### छकंडा [छकंडी]

छह खंडीय 938 56

### छक्का

छक्का 475.33 ⇨

हिजड़ा 238.5

### छक्का पंजा

छल 827 7

दौवपेच 819 11

### छक्कापान

नपुंसकता 238.4

### छक्के

साहस 394 1

### छक्के छटना

चेतना खोना 264.14

साहस टूटना 395 17

### छखंडा

छह खंडीय 938 56

### छगन भगन

शिशु जन 230.2

### छगल

नीला वस्त्र 578 20

### छगली

बकरी 127.22

### छछिया

आयतन मापी.पात्र सूची 959 58

### छछूँवर

छछूँवर 127.68 ⇨

### छजला

छज्जा 611 27

### छजली

छज्जा 611.27

टोप टोपी बाड़ 584 22

बढ़वाँ छत 611 19

### छजली पुल

छजली पुल 1065.10 ⇨

### छजाई

फटकाई 1009 12

### छज्जा

छज्जा 611.27 ⇨

बढ़वाँ छत 611 19

### छज्जा पुल

छजली पुल 1065.10

### छटकी

छटॉक 982.36

लघु 980.20

### छटकना

घुपघाप पलायन करना 916.11

त्राण पलायित होना 916 12

सरकना 1084 43

### छटका

मछली जाल सूची 1013.14

### छटन

कतरन 938 4

### छटपटाता [छटपटाती]

आतुर 496 11

कुलबुलाता [कुलबुलाती] 392 23

तरुपता [तरुपती] 392.30

### छटपटाना

कुलबुलाना 392 17

तरुपना 392.20

**छटपटाहट**  
आतुरता 496.3  
तडपडाहट 392.14

**छटौंक**  
छटौंक 962.36 ⇌

**छटौंक: 18**  
सेर 962.54

**छटौंक: 4**  
पीया 962.46

**छटा**  
तीव्र वर्षा 54 11  
दीप्ति 287 16  
रग आभा 289 2  
विद्युत चमक 55 10  
वैभव 226 5  
शोभा 226 1

**छटाई**  
सक्षेपण 980 5

**छटाभा**  
मेघ विद्युत 55.9  
विद्युत चमक 55 10

**छठ**  
छठी 798.12  
षष्ठी 44 12

**छठवीं [छठवीं]**  
छठा [छठी] 948 92

**छठा [छठी]**  
छठा [छठी] 948.92 ⇌

**छठी**  
छठी 774.35 ⇌  
छठी 798.12 ⇌  
देवसेना 774 47  
षष्ठी 44 12

**छठी उँगली**  
उँगलिया 150 20

**छठी पर पूज्य देवी**  
छठी 774 35

**छठे चौमासे**  
कभी कभी 36 25

**छक्का**  
अरा 1077.7  
खंता 559 11  
छक्का 597.13 ⇌  
घातु पिंड सूची 976.12  
लीवर 1062.3  
सरिया 597.17  
सीख 560.8

**छक्कादार बेड़ी**  
डंडा बेड़ी 868.27

**छक्का**  
अविवाहित 234.13  
अविवाहित पुरुष 236.17  
पत्नीपुत्रहीन पुरुष 236 19

**छक्का [छकी]**  
एकाकी 897.14  
परिवारहीन 726.15

**छक्कापन**  
अविवाहितता 234.9

परिवारहीनता 726.4

**छकिया**  
छकीबरदार 930 10

**छकियाल**  
भाला 925.4

**छकी**  
छकी 923.3 ⇌

ढोल उगगा 461.96  
लीवर 1062 3

**छकी छटौंक**  
एकांततः 697 21

**छकीदार**  
छकीबरदार 930 10  
द्वार पहरेदार 908 13

**छकीबरदार**  
छकीबरदार 930 10 ⇌

**छकी बरदार**  
द्वारः पहरेदार 908 13

**छत**  
उच्चता. उपमान सूची 982 13

छत 611 11 ⇌

टब 1076 14  
भवन शिखर 611 1

शरण 910.4

**छतः कक्ष**  
छत. कक्ष 614.23 ⇌

**छतगीर**  
छतः चादर 593 27

**छतः चादर**  
छतः चादर 593.27 ⇌

**छतः चौकाई**  
छत चौकाई 965.6 ⇌

**छत डलाई**  
आच्छाजन 600 2

**छत डालना**  
आच्छाजित करना 600 27

**छतदार नौका**  
बजरा 1072 21

**छतदार बाज़ार**  
छतदार बाज़ार 663 3 ⇌

**छतदार मार्ग**  
छतदार मार्ग 1063.24 ⇌

**छतदार सीढ़ी**  
छतदार सीढ़ी 613 7 ⇌

**छतनार**  
छाया वृक्ष 111 19  
शाखायुक्त 114 15

**छतनार वृक्ष**  
छाया वृक्ष 111 19

**छतनारा [छतनारी]**  
शाखायुक्त 114.15

**छत पकाई**  
आच्छाजन 600 2

**छत पर**  
उच्चतः 982 12

**छतर**  
छतर 802.15 ⇌

छाता 584 29

**छतरी**  
कुकुरमुत्ता 189 13  
गुबद 611.5

चंदोवा 600.18  
छतरी 584.32 ⇌

टब 1076 14  
तोंगा बग्घी रिक्शा: छत 611 15

पैराशूट 1074.9  
बैलगाड़ी छत 611 16

मडप 600.8  
समाधि घबूतरा 255.3

**छतरीबाज़**  
छाता सैनिक 934 12

**छतरीबाज़ सेना**  
छत्र सेना 932 18

**छतरी सेना**  
छत्र सेना 932 18

**छतरी सैनिक**  
छाता सैनिक 934 12

**छतीसी**  
पाखंड 825 2

**छतीनी**  
छतरी 584 32

**छत्ता**  
अव्यवस्थित समूह 690 4  
कमल कोश 112.8

कीट समूह 690.6  
छतदार बाज़ार 663 3

छतदार मार्ग 1063 24  
छत्ता 603.4 ⇌

दल 691 1  
बीज समूह 112 9

मधुमक्खी छत्ता 603.5  
4हल्ला 619 6

शाखा पुष्प समूह 115 8  
समूह 690 1

**छतीस (38)**  
विमुख 1023 10

**छतीसा [छतीसी]**  
कुटिल 818 7

**छतीसी**  
व्याभेचारिणी 806 11

**छत्र**  
छतर 802 15  
छत्ता 603 4

छाता 584.29  
पक्षी छतरी 603 13

राजछत्र 408 13

**छत्रक**  
कीट समूह 690.6  
कुकुरमुत्ता 189.13

छत्ता 603.4  
शिव मंदिर 745.38

**छत्रछाया**  
शरण 910 4

**छत्रछाया में आना**  
शरण लेना 910.7

**छत्रण**  
आच्छादन 592 1

**छत्रपति**  
राजा 882.6

**छत्रभंग**  
विध्वय 804 14

सत्ता ध्युति 902 3

**छत्रवट**  
नृसिंहः नी रूप सूची 769.21

**छत्र सेना**  
छत्र सेना 932 18 ⇌

**छत्र सैनिक**  
छाता सैनिक 934 12

**छत्रा**  
सोआ 189 37

**छत्री**  
राजा 882.6

**छत्वर**  
वृक्ष कुंज 12.18

**छद**  
गिलाफ़ 675 5

पंख 151.1  
पल्लव 115 1

पिधान 675 3

**छवन**  
आच्छादन 592.1  
पख 151 1

**छदपत्र**  
भोजपत्र 415.8

**छद्म**  
छद्म 824 9 ⇌

छल 827.7  
दिखावटी 825.5

**छद्म (दे.)**  
गुप्त 824 20

**छद्म आच्छादित**  
छद्म आवृत 824 22

**छद्म आवरण**  
छद्म आवरण 824.10 ⇌

**छद्म आवरण में होना**  
छद्म आवरण में होना 824.19 ⇌

**छद्म आवृत**  
छद्म आवृत 824.28 ⇌

**छद्म करना**  
छद्म आवरण में होना 824.19

**छद्मता**  
गुप्तता 824.2

**छद्म नाम**  
उपनाम 315.3

छद्म नाम 315.6 ⇌

**छद्मपूर्ण**  
छद्मपूर्ण 824.27 ⇌

छलपूर्ण 827.22

**छद्म रचना**  
छद्म रचना 824.11 ⇌

**छद्म रूप**  
छद्म वेश 824 12

## उद्मवास

उद्मवास  
भूमिगतता 824 6  
उद्मवासी  
भूमिगत 824.23  
उद्मवेश  
उद्मवेश 824 12 ⇨  
उद्मवेश 589.16 ⇨  
उद्मवेश धरना  
उद्मवेश धरना 589 23 ⇨  
उद्मवेश धारना  
उद्मवेश धरना 589 23  
उद्मवेशी  
उद्मवेशी 589.17 ⇨  
उद्महीन  
उद्महीन 822 30 ⇨  
उद्महीनता  
उद्महीनता 822 11 ⇨  
उद्मावृत्त  
उद्म आवृत्त 824 28  
उद्मी  
उद्मवेशी 589 17  
उली 827 24  
उन  
क्षण 50.11  
उद 452.1  
उन कहाई 800.16  
उन काव्य 796.24  
उनकना  
मुनमुना 480 11  
उनक मनक  
उमउम 296.8  
उन कहाई  
उन कहाई 800.16 ⇨  
उनकार  
उनउनाहट 297 18  
उन काव्य  
उन काव्य 796 24 ⇨  
उनउन  
उनउनहट 297 18  
उमउम 296 8  
उनउनहट  
उनउनहट 297 18 ⇨  
उनन  
उँटन 526 10  
उनाई 1009 8  
उनन मनन  
उनउनहट 297 18  
उनस  
उँटन 526 10  
रूर 526 11  
उना [उनी]  
उना [उनी] 1009 22 ⇨  
उनाई  
उनाई 1009 8 ⇨  
उनाई करना  
उानना 1009 17  
उनाई सफ़ाई  
उनाई 1009 8

उनीरी  
उनीरी 200 14  
उन्न  
गुप्त 824 20  
प्रच्छन्न 824.26  
उन्ना  
उलना 560.20  
उपक  
उपक 668.4 ⇨  
उपक कर मिश्रित करना  
घँघोलना 1008 22  
उपकन  
उपक 668.4  
उपकना  
घँघोलना 1008.22  
उपकना 668.17 ⇨  
उपका  
उपक 668.4  
उपका 609.21 ⇨  
उपकाना  
उपकना 668 17  
उपकी  
उपका 609 21  
उपउपाना  
उपकना 668 17  
उपटी  
धिप्यड 938 40  
उपहला [उपहली]  
वट्पाश्वीय 997 17  
उपहलू  
वट्पाश्वीय 997 17  
वट्फलक 977.22  
उपा [उपी]  
प्रकाशित 420.9  
मुद्रित 419.13  
उपाई  
छीपीगीरी 578 3  
प्रकाशन कर्म 420 4  
मुद्रण 419 1  
उपाई करना  
मुद्रित करना 419 12  
उपाका  
उपक 668 4  
उपास  
अभिव्यक्ति इच्छा 428 2  
उपी चादर  
उपी चादर 593.21 ⇨  
उप्यय  
उप्यय 452 14 ⇨  
वट्पाश्वीय 997 17  
वड्मुज 969 9  
उप्यर  
कुटी 602 1  
उप्यर 615 1 ⇨  
टब 1076 14  
दलवों छत 611 18  
सायबान 615.3

उप्यर: किनारा  
उप्यर: किनारा 615.2 ⇨  
उप्यर गाड़ी  
उप्यर गाड़ी 1071.29 ⇨  
उप्यर डलाई  
आच्छाजन 600.2  
उप्यर: रस्सी  
उप्यर: रस्सी 570.11 ⇨  
उब  
शोभा 226.1  
उबका  
टोकरा 877.1  
उबकी  
टोकरा 677.5  
उबिधर  
सुंदरकाय 158.11  
उबील  
प्याऊ 207.11  
उबीला  
शृंगार प्रेमी (पुरुष) 222.5  
उबीला [उबीली]  
शोभायुक्त 226.11  
सजा धजा [सजी धजी] 226.13  
सुंदरकाय 158.11  
उबीलापन  
शृंगार प्रेम 222.4  
उबीली  
शृंगार प्रेमी (स्त्री) 222 6  
उबीसवों तत्व  
पुरुष 764 21  
उमंड  
अनाथ 719.5  
उमक  
इतराहट 860.5  
नाज़ नख़रा 860.1  
उमक छल्लो  
रूप अभिमानिनी 860 22  
उमउम  
उमउम 296.8 ⇨  
झमझमाहट 297.19  
उमाही  
वण्मासिक 71.21  
उरना  
साव होना 1032 16  
उरहरा  
उरहरा 154.30 ⇨  
उरहरा शरीर  
उरहरा शरीर 154 11 ⇨  
उरहरी  
उरहरी 154 31 ⇨  
उरीदा  
एकाकी 697.14  
उर्दन  
वमन 215 26  
उर्दिका  
वमित पदार्थ 215.25  
उर्दिघ्न  
वमन रोधक 215 34

उर्दा  
कंकड़ 938.35  
गुलेला 977.2  
उर्दा 479.14 ⇨  
उर्दी  
कंकड़ी 938.36  
गुलेला 977.2  
उरल  
घोरी: घटना 884.2  
उरल 827.7 ⇨  
बंधक दोह 633.23  
बख़्तर 827.8  
उरलक  
उरलकाव 1032.3  
उरलकता [उरलकती]  
उरलकता [उरलकती] 1032.29 ⇨  
उरलकन  
उरलकाव 1032.3  
उरलकना  
उँडलना 1032 18  
उरलकना 1032.17 ⇨  
उरल कपट  
उरल 827 7  
उरलकपटहीन  
उरलहीन 815.8  
उरल करना  
उरल करना 827.14 ⇨  
उरल कर्ता  
उली 827.24  
उरलकाव  
अपकेद्र बल 1050.3  
उरलकाव 1032.3 ⇨  
उरल उद  
उरल 827.7  
उरल उद्म  
उरल 827.7  
उरलउद्मपूर्ण  
उरलपूर्ण 827 22  
उरलउरल  
अधुपूर्ण 387.7  
उरलकता [उरलकती] 1032.29  
उरलउरला आना  
उरलकना 1032 17  
उरलउरलाता [उरलउरलाती]  
अधुपूर्ण 387 7  
उरलकता [उरलकती] 1032.29  
उरलउरलाना  
औंसू आना 387 4  
उरलकना 1032 17  
उरलउरलाव  
उरलकाव 1032.3  
उरलउरलाहट  
उरलकाव 1032.3  
उरल न करना  
उरल न करना 815.4 ⇨  
उरलना  
उद्म आवरण 824.10  
उरल 827.7



छल करना 827 14  
 छलना 560.20 ⇨  
 माया 762 9  
 माया दर्शन 342 4  
 मायावी दृश्य 312 8  
**छलनी**  
 असपन बुना 576 31  
 छलनी 560 21 ⇨  
 छिद्रित 271 24  
**छलनी कर्म**  
 छनाई 1009 8  
**छलनीपन**  
 छिद्रिलता 271 7  
**छलनी होना**  
 हृदय भजित होना 391 22  
**छलपूर्ण**  
 कुटिल 818 7  
 छलपूर्ण 827 22 ⇨  
**छलपूर्ण कथन**  
 कुटिल भाषण 432 5  
**छलपूर्णता**  
 कुटिलता 818 3  
**छलपूर्णक लेना**  
 ठगना 864 49  
**छलमलाना**  
 छलकना 1032 17  
**छल युद्ध**  
 नियम विरुद्ध युद्ध 907 33  
**छल हत्या**  
 अपहत्या 251 8  
**छलहीन**  
 छलहीन 815 8 ⇨  
**छलहीनतः**  
 छलहीनता 815 9 ⇨  
**छलहीनता**  
 छलहीनता 815 3 ⇨  
**छलौंग**  
 कूद 1086 3  
 छलौंग 1086.10 ⇨  
 लंघन 1097 7  
 विमान उड़ान 1081 11  
**छलौंग (दे.)**  
 कुलौंग 1084.6  
**छलौंगता [छलौंगती]**  
 छलौंगता [छलौंगती] 1086.23 ⇨  
**छलौंगना**  
 कुलौंगना 1084.30  
 छलौंगना 1086.18 ⇨  
 लौंगना 1097.12  
**छलौंग लगाना**  
 छलौंगना 1086.18  
**छला [छली]**  
 छलित 827.23  
**छलावा**  
 घकमा 819.9  
 जादू 474.2  
 तिलिस्म 474 13  
 भूत बाधा 759.7

मायावी दृश्य 312.8  
 श्मशान दीप्ति 287 19  
**छलावा देना**  
 छल करना 827 14  
**छलावृत**  
 छद्म आवृत 824 28  
**छलित**  
 छलित 827 23 ⇨  
**छलितक योग**  
 चौसठ कला सूची 397 4  
 तिलिस्म 474 13  
**छलिया**  
 छद्म वेशी 589 17  
 छली 827 24  
 सम्मोहन कर्ता 367 8  
**छलिया दलाल**  
 छलिया दलाल 659 3 ⇨  
**छली**  
 छली 827 24 ⇨  
 तिलिस्मगर् 474 14  
 दीवबाज़ 819 19  
**छली [छलिनी]**  
 सम्मोहन कर्ता 367 8  
**छल्ला**  
 अँगूठी 228 2  
 कड़ा 228 6  
 कर्ण कुंडल 228 9  
 केश घूँघर 137 6  
 चूड़ी 228 11  
 छल्ला 1016 29 ⇨  
 धातु मेंढी लाठी 923 10  
 नाभि छल्ला 1077 5  
 प्रातबन सूची 1024 5  
 बाद्य परदा 461 99  
 शुखला कड़ी 569 27  
**छल्ला पहनाई**  
 बरायन 800 28  
**छल्ली**  
 भुट्टा 116 4  
 सहारा दीवार 607 4  
**छल्लेवार**  
 घुँघराला 137.25  
**छवना [छवनी]**  
 पशु शिशु 230 1  
**छवी [छवी]**  
 छठा [छठी] 948 92  
**छवा [छवी]**  
 आच्छाजित 600 29  
**छवाई**  
 आच्छाजन 600 2  
**छवि**  
 आकार रूप 967 5  
 पोर्ट्रेट 404.2  
 शोभा 226.1  
**छविकार**  
 पोर्ट्रेट कर्मी 404 30  
**छवि चित्र**  
 पोर्ट्रेट 404.2

**छवि चित्रकार**  
 पोर्ट्रेट कर्मी 404.30  
**छह**  
 छह 948 27 ⇨  
**छह आस्तिक दर्शन सूची**  
 छह आस्तिक दर्शन सूची 760 28 ⇨  
**छह: उपमान सूची**  
 छह उपमान सूची 948 28 ⇨  
**छह ऋतु**  
 कालचक्र नेमि 36 6  
**छह क्लेश**  
 षडक्लेश 761 18  
**छह खंडीय**  
 छह खंडीय 938 56 ⇨  
**छहगुना**  
 छहगुना 949 47 ⇨  
**छहगुना [छहगुनी]**  
 छहगुना 949 47  
**छह नास्तिक दर्शन सूची**  
 छह नास्तिक दर्शन सूची 760 29 ⇨  
**छह पार्थिव सीर मास**  
 अयन 5 16  
**छहरना**  
 छिटकना 668 18  
**छह राग**  
 षड राग 457 21  
**छहरीली**  
 छरहरी 154 31  
**छह विकार**  
 षड्विकार 812 4  
**छह समुदाय**  
 छह समुदाय 687 8 ⇨  
**छह स्वर राग**  
 षाडव राग 457 16  
**छह स्वाद**  
 षड स्वाद 275 2  
**छँट**  
 कटाई छँटाई 543 7  
 कर्तः 938 4  
 कर्तन 543.1  
 युगन 526 9  
 छँटाई 1009.6  
 पशु आत्र 152 3  
 पृथक्करण 1009 1  
 साराश 449 12  
**छँटन**  
 कतरन 938 4  
 पृथक्करण 1009 1  
 सक्षेपण 980 5  
**छँटना**  
 अभिमान प्रदर्शन करना 858 8  
 काटना 543 13  
 कोटिकरण करना 936 6  
 वयन करना 1009 13  
 छँटना 1009.15 ⇨  
 डींग मारना 842.9  
 सक्षिप्त करना 980.14

**छँटा [छँटी]**  
 कर्तित 543 14  
**छांद**  
 छांदीय 452 52  
**छाँद**  
 दोहन रस्ती 543 19  
 मथन रस्ती 554 15  
**छाँदना**  
 कसना 1013 18  
 बाँधना 1013 17  
**छाँदा**  
 पकवान 200 23  
 परोसा 183 25  
**छाँदिक**  
 छाँदीय 452 52  
**छाँदोग्य आरण्यक**  
 छाँदोग्य आरण्यक 740 21 ⇨  
**छाँदोग्य उपनिषद**  
 उपनिषद सूची 740 13  
**छाँस**  
 कूड़ा करकट 214 4  
 पृथक्करण 1009 1  
**छाँह**  
 छाया 286 5  
 शरण 910 4  
**छाँहदार**  
 छायादार 286.18  
**छाक**  
 छाक 200 24 ⇨  
 तृप्ति 361 5  
 मठरी 200 29  
 यात्रा आहार 199 6  
**छाग**  
 नर बकरी 127 23  
 पुरोडाश 753.28  
 बकरी 127 22  
**छाग [छागी]**  
 भेड़ बकरी शिशु 230 17  
**छागपाल**  
 भेड़ बकरी पालक 555 2  
**छाग पालन**  
 भेड़ बकरी पालन 555 1  
**छागभोजी**  
 भेड़िया 127 77  
**छाग मांस**  
 छाग मांस 206.22 ⇨  
**छागमुख**  
 स्कंद 773.50  
**छागमेध**  
 अजामेध 754.11  
**छागल**  
 छागल 679 18 ⇨  
 नर बकरी 127 23  
 मशक 679 38  
**छाछ**  
 मट्टा 193.10  
**छाछ जला घी**  
 शुद्ध घी 196 9

## छात्र

### छात्र

अग्रकेश 137.3

छात्र 560.22 ⇨

### छात्र कर्म

फटकाई 1009 12

### छात्रजन

आच्छाजन 600 2

ऐगजीमा 165 5

फटकाई 1009.12

### छात्रजन: बीच का बल्ला

बैंडेर 611 24

### छात्रजन रोक

टोड़ा 611.23

### छात्र जाना

गहन प्रभाव छोड़ना 511 12

सीमातिक्रमण करना 1001 32

### छात्रा

छात्रा 584 29 ⇨

### छात्राधारी

पैरास्टिस्ट 1081.37

### छात्राधारी सैनिक

पैराटुपर 1081 38

### छात्रा सैनिक

छात्रा सैनिक 934.12 ⇨

### छात्री

वक्ष 146 1

साष्टांग दंडवत अंग सूची 1080.9

स्तन 146 8

स्त्री स्तन 146.7

हृदय 146 5

### छात्री का वृक्ष पिलाना

स्तन दान करना 207 17

### छात्री वॉकना

अखाड़े में उतरना 486 23

छात्री वॉकना 917 6 ⇨

### छात्री पिलाना

स्तन दान करना 207 17

### छात्री से विपटाना

अत्यधिक लाड़ करना 721.10

### छात्र

छात्र 323 26 ⇨

### छात्र वृत्ति

छात्र वृत्ति 641 18 ⇨

### छात्रालय

छात्रावास 321 17

### छात्रावास

छात्रावास 321 17 ⇨

### छात्रावासी

छात्रावासी 321 40 ⇨

### छात्रावासी (दे.)

गुरुकुल वासी 616 17

### छाद

छत 611 11

छप्पर 615.1

### छादन

आच्छाजन 600 2

आच्छादन 592 1

### छादित

आच्छादित 592 13

### छादिनी

त्वचा 134 1

### छान

गहरी खोज 336.6

छनाई 1009 8

### छान डालना

खोज में भटकना 336 18

### छानन

छनाई 1009 8

### छानना

कड़ाही में तलना 195 53

खोजना 336 17

छलना 560 20

छानना 1009 17 ⇨

तथ्यान्वेषण करना 336 16

पूछना 333 19

भौंग पीना 210 7

मद सेवन करना 211 8

### छानबीन

गहरी खोज 336 6

तथ्यान्वेषण 336 1

### छाना

आच्छाजित करना 600.27

आच्छादित करना 592.8

गहन प्रभाव छोड़ना 511.12

प्रभावित करना 511 9

प्रसारित होना 979 10

मेघ समूह आना 55.12

मेघाच्छन्न होना 55 13

व्याप्त होना 981 8

शरण देना 910 8

### छानी

कुटी 602 1

### छाप

अनुधिष्टन 867 6

अनुलिपि प्रकार सूची 414 6

उँगली छाप 867.3

उँगली: निशान 867 2

छाप 414.9 ⇨

छीपीगीरी 578 3

ठाप 414.11

थापा 800 19

धर्म 735.1

धर्म विष्टन 407 7

प्रदधिष्टन 867 4

प्रभाव 511 1

मुद्रण 419 1

मुद्रण छाप 419 6

मुद्रांक 414 17

मुद्रित प्रति 419 8

सादृश्य आभास 309 4

सुराहा 867 1

### छापना

ठप्पा लगाना 414 22

प्रकाशित करना 420.8

मुद्रित करना 419 12

सुलेखन करना 412.38

### छापने वाला

मुद्रण कर्ता 419.2

### छाप मिलना

सादृश्य आभास होना 309.12

### छाप लगाना

छापा लगाना 414 21

### छापा

अनुलिपि: प्रकार सूची 414.6

आक्रमण 914.3

छाप 414 9

छापा 914.8 ⇨

छीपीगीरी 578.3

डकेली 864 19

थापा 800.19

मुद्रण यंत्र 419.10

मुद्रणालय 419.5

समाचार पत्र 445.1

सुलेख. उपमान सूची 412 11

### छापामाना

मुद्रणालय 419 5

### छापा डालना

छापा मारना 914.14

### छापामार

छापामार 914.21 ⇨

### छापामार दल

छापामार दल 914.9 ⇨

### छापा मारना

छापा मारना 914.14 ⇨

### छापामार युद्ध

गुरिल्ला युद्ध 905.10

### छापा लगाना

छापा लगाना 414.21 ⇨

### छापे की कल

मुद्रण यंत्र 419 10

### छाबड़ा

टोकरा 677 1

### छाबड़ी

ख्यानधा 685.12

### छाबड़ी

टोकरा 677.5

फेरी दुकान 662.3

### छाबड़ी वाला

फेरी वाला 661 14

### छामोदरी

पतली कमर वाली 158.30

### छायांक

चंद्रमा 8.2

फ़ोटो 405 1

### छायांकन

फ़ोटोग्राफ़िंग 405 14

### छाया

छाया 286.5 ⇨

छाया 774.36 ⇨

दुर्गा 776.7

धुंधलका 286.4

पीछा 1096 3

प्रतिरूप 967 9

भूत बाधा 759.7

शरण 910.4

सादृश्य आभास 309.4

### छाया [छाई]

आच्छाजित 600.29

आच्छादित 592.13

### छायाकार

छायाकृति 405.2

### छायाकृति

छायाकृति 405.2 ⇨

### छायाग्रह

दर्पण 283 13

### छाया चित्र

फ़ोटो 405 1

### छाया चित्रण

फ़ोटोग्राफ़िंग 405.14

### छाया तरु

छाया वृक्ष 111.19

### छायादार

छायादार 286.18 ⇨

### छाया दिखना

सादृश्य आभास होना 309 12

### छाया नाटक

कठपुतली खेल 473 4

छाया नाटक 463.21 ⇨

### छाया नाटक

छाया नाटक 463.21

### छाया पड़ना

भूतबाधा होना 759 17

### छाया पथ

आकाश गंगा 1 14

छतदार मार्ग 1063.24

### छाया पुरुष

आशंका दर्शन 342 7

### छाया पुरुष दर्शन

आशंका दर्शन 342 7

### छायामूर्ति

छायाकृति 405.2

पार्श्व चित्र 404 16

### छायाभूगर्धर

चंद्रमा 8 2

### छाया में

निम्नतः 983 6

### छाया यंत्र

धूपघड़ी 50.19

### छाया वृक्ष

छाया वृक्ष 111.19 ⇨

### छार

धूलि 100 4

राख 106.15

### छाल

धर्म 582.1

छाल 116.5 ⇨

नौका सूची 1072.3

बल्कल परिधान 583.7

### छालटी

सन कपड़ा 579.12

**छासना**  
छानना 1009 17  
**छाला**  
आसन चर्म 582 12  
छाल 116 5  
*छाला 167 9 ⇨*  
**छाला (जैसे: मगूछाला)**  
चर्म 582 1  
**छाला: द्रव**  
कचलोहू 167 15  
**छालिया**  
*छालिया 938 18 ⇨*  
पान मसाला सूची 213 20  
**छाली**  
छालिया 938 18  
**छावनी**  
सेना छावनी 933 7  
सैनिक शिविर 933 11  
**छायर**  
मछली समूह 690 7  
**छाह**  
मट्ठा 193 10  
**छायका**  
छीक 163 15  
छीका 676 10  
**छिछा**  
पशु आत्र 152 3  
**छिछला [छिछली]**  
अधरिक्त 1005 8  
अविचारक 330 23  
उथला [उथली] 984 8  
घचल 860 24  
**छिछला कटोरा**  
*छिछला कटोरा 683 3 ⇨*  
**छिछला गड़दा**  
*छिछला गड़दा 15 3 ⇨*  
**छिछलापन**  
उथलापन 984 3  
**छिछला पानी**  
उथली जलराशि 984 4  
**छिछली कड़ाही**  
*छिछली कड़ाही 682 8 ⇨*  
**छिछली टोकरा**  
*छिछली टोकरा 677 6 ⇨*  
**छिछियाना**  
थिक्कारना 843 16  
**छिछोरा [छिछोरी]**  
अधम 840 4  
दुराशय 818 9  
**छिछोरापन**  
अधमता 840 1  
**छिछोरी लड़ाई**  
जूतम पैजार 905 21  
**छिजाना**  
कम करना 980.13  
**छिटक**  
छीटा 668 6

**छिटकना**  
उन्मुक्त होना 1015 6  
*छिटकना 668 18 ⇨*  
छीटा लगाना 668 19  
प्रसारित होना 979 10  
**छिटकाई**  
छिटकाव 668 5  
**छिटकाना**  
छितराना 668 21  
बिखेरना 668 14  
**छिटकाव**  
*छिटकाव 668.5 ⇨*  
छितराव 668 8  
बिखराव 668 1  
**छिटपुट**  
अल्प 942 13  
अल्पदा 72 10  
उपाहार 200 1  
विधि सामग्री 669 4  
**छिटपुट चोरी**  
उठाईगीरी 864 10  
**छिटपुट युद्ध**  
गुरिल्ला युद्ध 905 10  
**छिड़कन**  
छिड़काव 668 7  
**छिड़कना**  
आर्द्र करना 88 19  
छिटकना 668 18  
*छिड़कना 668 20 ⇨*  
बुरकना 668.24  
**छिड़काव**  
क्षणिक वर्षा 54 8  
क्षीण वर्षा 54 9  
*छिड़काव 668.7 ⇨*  
फुहार सिधन 548 15  
**छिड़काव (दे.)**  
बुरकाव 668 12  
**छिड़काव करना**  
छिड़कना 668 20  
**छिड़ना**  
आरंभ होना 994 10  
युद्ध होना 905 30  
**छिड़ा [छिड़ी]**  
मुठभेड़ ग्रस्त 915 12  
**छितनी**  
बॉस बेट टोकरा 677 4  
**छितरना**  
क्रमहीन होना 992 4  
**छितरा [छितरी]**  
बिखरा [बिखरी] 668 25  
**छितराना**  
छिड़कना 668 20  
*छितराना 668 21 ⇨*  
बिखेरना 668 14  
**छितराव**  
*छितराव 668 8 ⇨*  
बिखराव 668 1

**छिति**  
विदर 544.4  
**छित्तर**  
अंतर्वेधक 271 21  
**छिदना**  
*छिदना 271 19 ⇨*  
**छिदरा [छिदरी]**  
असघन बुना 576.31  
विरल 1005 9  
**छिदरापन**  
विरलता 1005.2  
**छिदा [छिदी]**  
अतर्वेधित 271 22  
छिद्रयुक्त 271 23  
छिद्रिल 271.24  
**छिदाई**  
अतर्वेधन 271 1  
उत्कीर्णन 406 19  
**छिदापन**  
छिद्रिलता 271.7  
**छिद्र**  
*छिद्र 271.6 ⇨*  
जाल रंभ 572 19  
दुर्गुण 314 4  
विल 603 7  
शरीर रंभ 138.1  
स्प्रोकट 405 23  
**छिद्र (दे.)**  
खोच 270.4  
**छिद्रक**  
अतर्वेधक 271 21  
छिद्रण उपकरण 559 48  
**छिद्र करना**  
छेदना 271 20  
**छिद्रकर्ण**  
कनछिदा [कनछिदी] 798 42  
**छिद्र खनन**  
*छिद्र खनन 1018.4 ⇨*  
**छिद्रण**  
अतर्वेधन 271 1  
छिद्र खनन 1018 4  
बरमा कर्म 564 5  
**छिद्रण उपकरण**  
*छिद्रण उपकरण 559.48 ⇨*  
**छिद्र दर्शन**  
दोष दर्शन 843 9  
**छिद्रदर्शी**  
दोषदर्शी 843.25  
**छिद्र माप**  
*छिद्र माप 271 14 ⇨*  
**छिद्र मुख**  
*छिद्र मुख 271 15 ⇨*  
**छिद्रयुक्त**  
*छिद्रयुक्त 271.23 ⇨*  
**छिद्ररुद्ध**  
रुद्ध 272.10  
**छिद्ररुद्धता**  
रुद्धता 272.3

**छिद्र रोधक**  
रोधक 272 11  
**छिद्र रोधन**  
रोधन 272 4  
**छिद्र वाद्य**  
शुषिर वाद्य 461.20  
**छिद्र वैदेही**  
गज पिप्पली 281 14  
**छिद्रहीन**  
*छिद्रहीन 272.9 ⇨*  
**छिद्रहीनता**  
*छिद्रहीनता 272.2 ⇨*  
**छिद्रान्धेयक**  
दोषदर्शी 843 25  
**छिद्रान्धेयण**  
दोष दर्शन 843.9  
**छिद्रान्धेयण करना**  
दोष देखना 843.18  
**छिद्रान्धेयी**  
दोषदर्शी 843.25  
**छिद्रावकाश**  
पोल 271 17  
**छिद्रित**  
अतर्वेधित 271.22  
छिद्रयुक्त 271.23  
**छिद्रित करना**  
छेदना 271 20  
**छिद्रित होना**  
छिदना 271 19  
**छिद्रिल**  
*छिद्रिल 271 24 ⇨*  
**छिद्रिल (दे.)**  
जालीदार 572 21  
**छिद्रिल घट**  
*छिद्रिल घट 679.5 ⇨*  
**छिद्रिलता**  
*छिद्रिलता 271.7 ⇨*  
**छिन**  
क्षण 50.11  
**छिन छिन**  
प्रति क्षण 1049.19  
**छिनाई**  
छीन 635 7  
जकती 635.6  
**छिनाल**  
व्यभिचारिणी 806 11  
**छिनालपन**  
विवाह अनिच्छा 806.1  
वेश्या वृत्ति 807 2  
**छिनाला**  
व्यभिचारिणी 806.11  
**छिन्न**  
अप्रबल 488 14  
अबलिष्ठ 159 12  
धका [धकी] 492 15  
विघटित 544 17  
हस्त 531 11

## छिन्न

### छिन्न

विघटन 544 1

### छिन्न चित्र

नष्ट 531.7

बिखरा [बिखरी] 668 25

विघटित 544.17

### छिन्नमस्ता

छिन्नमस्ता 776.6 ⇨

### छिन्नमूल

उन्मूलित 548 57

### छिन्नसंशय

शिव 767.1

### छिन्ना

व्यभिचारिणी 806 11

### छिप कर

गुप्ततः 824 29

### छिप कर बैठना

घात लगाना 914 12

### छिप कर प्रवण

छिप कर प्रवण 293.5 ⇨

### छिप कर सुनना

छिप कर सुनना 293.10 ⇨

### छिपकली

छिपकली 123 7 ⇨

### छिपटी

खपस 938.10

### छिपन

अस्तगमन 5 10

छद्म 824 9

प्रच्छन्न 824 8

### छिपना

अस्त होना 5 27

अस्पष्ट होना 823 9

गुप्त होना 824 13

घात लगाना 914 12

छद्म आवरण में होना 824 19

प्रच्छन्न होना 824 18

भूमिगत होना 824 16

विलुप्त होना 824 17

### छिपने के लिए नाम

छद्म नाम 315 6

### छिपा [छिपी]

अस्तगत 5 30

आच्छादित 592 13

आड़दार 605 16

गुप्त 824 20

ग्रहण ग्रस्त 6 7

प्रच्छन्न 824 26

भूमिगत 824 23

### छिपाई

गोपन 824 1

प्रच्छन्न 824 8

### छिपा कर काम करना

गुप्ततः करना 824 15

### छिपा खाना

चोर खाना 671 21

### छिपाना

आड़ करना 605 15

गुप्ततः करना 824.15

गोपन करना 824 14

ग्रहण ग्रस्त करना 6 6

रहस्य न खोलना 823 10

### छिपाने वाला

गोपयिता 824 22

### छिपा पत्ता

छिपा पत्ता 479.20 ⇨

### छिपापन

गुप्तता 824 2

### छिपा रहने देना

रहस्य न खोलना 823 10

### छिपाव

छद्म 824 9

भूमिगतता 824 6

### छिपावदार

छद्मपूर्ण 824 27

### छिपी बात

रहस्य 823 7

### छिपे छिपे

अंदर अंदर 999 18

गुप्ततः 824 29

### छिपीअल

गोपन 824 1

### छिबड़ा

घपटा टोकरा 677 2

### छिलका

उत्तल सूची 985 21

छाल 116 5

छिलका 116 6 ⇨

छीलन 938 19

फल छिलका 116 10

### छिलका (प्याज़)

पत्तर 990 23

### छिलका उत्तरा

छिलका उत्तरा 542 19 ⇨

### छिलका उत्तराई

छिलका उत्तराई 542 5 ⇨

### छिलका उत्तरी दाल

अशल्क दाल 188 4

धुली दाल 188 5

### छिलका उत्तारना

छिलका उत्तारना 542 13 ⇨

छीलना 542 12

### छिलकेदार कंद

शल्क कंद 111 12

### छिलकेदार दाल

सशल्क दाल 188 3

### छिलन

खरोच 270 2

रगड़ 167 11

### छिला [छिली]

छिलका उत्तरा 542 19

छिला [छिली] 542.18 ⇨

### छिलाई

छिलका उत्तराई 542 5

छिलाई 542 4 ⇨

### छिलोरी

छाला 167 9

### छिल्लक

फल छिलका 116 10

### छीक

छीक 163.15 ⇨

### छीका

छीका 676.10 ⇨

प्रालंब सूची 1024 4

### छीट

छीट 578 7 ⇨

छीटदार वस्त्र 580 11

छीटा 668 6

बूँद 88 11

### छीटदार वस्त्र

छीटदार वस्त्र 580 11 ⇨

### छीटना

छिटकना 668 18

छीटा लगाना 668 19

### छीट बूँदकी

छीट बूँदकी 578 8 ⇨

### छीट मारना

छीटा लगाना 668 19

### छीटा

कटाक्ष 844 3

क्षणिक वर्षा 54 8

क्षीण वर्षा 54 9

छीटा 668 6 ⇨

### छीट्टा

बूँद 88 11

### छींटा

वर्षा 54 5

### छींटा मारना

छींटा लगाना 668 19

### छींटा लगाना

छींटा लगाना 668 19 ⇨

### छींदा

बीज समूह 112 9

### छीबी

फली 116 3

### छींबी

बीज समूह 112 9

### छी

छिक्कार 843 5

भर्त्सना उद्गार सूची 843 28

### छीका

छींका 676.10

झूला 1034 3

झूला पुल 1065 11

### छीका पुल

झूला पुल 1065 11

### छीछका

परशु आत्र 152 3

### छीछके देखना

दोष देखना 843 18

### छीछालेदार

थूत्कार 855 4

दुर्दशा 627 8

### छीछी

थूत्कार 855 4

### छी छी

भर्त्सना उद्गार सूची 843 28

### छीछी

विष्ठा 216 2

### छी छी करना

छिक्कारना 843 16

### छीज

मूल्य क्षयण 664 15

शुक्लन. भार क्षय 89 3

हास 531 3

### छीजन

कम होना क्रिया 980 3

मूल्य क्षयण 664 15

### छीजना

कम होना 980 12

क्षीणकाय होना 159 7

हानि होना 646 13

हास होना 531 6

### छीजा [छीजी]

हस्त 531 11

### छीटना

छींटा लगाना 668 19

### छीटा

बॉस बेट टोकरा 677 4

### छीतना

डक मारना 918 25

### छीदा [छीदी]

असघन बुना 576 31

छिद्रिल 271 24

विरल 1005 9

### छीन

छीन 635 7 ⇨

जब्दी 635 6

### छीन झपट

लूटपाट 864 24

### छीनना

छीनना 635 13 ⇨

प्रवर्धित करना 635 15

### छीनना झपटना

छीना झपटी करना 635 14

### छीनने वाला

छीनने वाला 635.24 ⇨

### छीना [छीनी]

छीना [छीनी] 635 23 ⇨

### छीना छीनी

छीना झपटी 635 8

### छीना झपटी

छीना झपटी 635 8 ⇨

स्वार्थ साधन 712 6

### छीना झपटी (दे.)

भागदौड़ 1084 16

### छीना झपटी करना

छीना झपटी करना 635.14 ⇨

### छीप

मत्स्य आखेट बसी 252 18

**छीपा**  
छीपी 578 4

**छीपी**  
छीपी 578.4 ⇌

**छीपी: कर्म**  
छीपीगीरी 578.3

**छीपीगीरी**  
छीपीगीरी 578 3 ⇌

**छीपी ठप्पा**  
छीपी ठप्पा 414 13 ⇌

**छीमी**  
फली 116 3  
बीज समूह 112 9  
सेम 189 36

**छीलन**  
छिलाई 542 4  
छीलन 938 19 ⇌

**छीलना**  
खुरचना 542 15  
छिलका उतारना 542 13  
छीलना 542 12 ⇌

**छीलर**  
कूप निकट होज़ 18 15  
तलैया 18 8

**छुंका [छुंकी]**  
छुंका [छुंकी] 195 63 ⇌  
स्निग्ध 197 16

**छुंकाई कलछा**  
छुंकाई कलछा 681 3 ⇌

**छुअन**  
स्पर्श 269 2

**छुआ [छुई]**  
उच्छिष्ट 198 11  
स्पर्शित 269.14

**छुआछूत**  
आहार अशौच 198 7

**छुआने भर को**  
अत्यल्पत 942 24

**छुकछुक गाड़ी**  
छुकछुक गाड़ी 476 10 ⇌  
रेलगाड़ी 1071 66

**छुट**  
अतिरिक्त 945 4

**छुट-**  
अधम 840 4  
लघु 980 20

**छुटका [छुटकी]**  
अनुज [अनुजा] 723.25  
ठिगना 154 18  
लघुकाय 154 28

**छुटकारा**  
उन्मुक्ति 1015 3  
मोक्ष 257 1  
रिहाई 869.1  
विभ्राम काल 494.2  
सकट मोचन 910.1

**छुटकारा हिलाना**  
संकट दूर करना 910.6

**छुटकू [छुटकी]**  
शिशु 230.3

**छुटना**  
परित्यक्त होना 1003.2  
प्रक्षिप्त होना 1052 13

**छुटपन**  
बाल अवस्था 230 21  
लघुता 980 1

**छुटपुट**  
अल्प 942 13  
विविध सामग्री 669 4

**छुटभैया**  
पिछलग्गू 1096 13

**छुटवाने वाला**  
आमोचक 1015 11

**छुटा [छुटी]**  
अधिग्रहण त्यक्त 639 25  
अपराध मुक्त 869 9  
अवतारित 1080 42  
प्रक्षेपित 1052 19

**छुटाना**  
विलग करना 1011 4

**छुटौती**  
अपहरण धन 862 2  
रिआयत 664.16

**छुटदा**  
अविवाहित 234 13  
रेजगारी 629 23  
व्यभिचारी 806 10

**छुटदा [छुट्टी]**  
एकाकी 697 14  
खुदा 666 14  
दायित्वहीन 896 5

**छुट्टी**  
अवकाश अनुमति 494 8  
अवकाश दिवस 494 14  
अविवाहिता 234 14  
अव्यस्ताता 503 4  
उन्मुक्ति 1015 3  
कार्य दिवसात 494 3  
दीर्घ अवकाश 494 17  
नागा 494 7  
रिहाई 869 1  
विभ्राम काल 494 2  
व्यभिचारिणी 806 11  
सेवा ध्युति 653 15

**छुट्टी (दे. अवकाश)**  
अनुपस्थिति 1022 2

**छुट्टी उकाना**  
नागा करना 494 20

**छुट्टी का दिन**  
अवकाश दिवस 494 14

**छुट्टी मारना**  
नागा करना 494.20

**छुट्टे**  
खुद मे 666 16

**छुट्टे में**  
खुद मे 666.16

**छुड़वाई**  
आमोचन 1015.2

**छुड़वाने वाला**  
आमोचक 1015 11

**छुड़वैया**  
आमोचक 1015 11  
सकट मोचक 910 10

**छुड़ा [छुड़ी]**  
अधिग्रहण त्यक्त 639 25  
अवतारित 1080 42

**छुड़ाई**  
पुनराक्य 660 9  
यान अवतारण 1080 8

**छुड़ाना**  
ध्युत करना 653.27  
वियोग करना 388 6  
विलग करना 1011 4  
सकट दूर करना 910.6

**छुड़ीती**  
अपहरण धन 862 2

**छुतहा [छुतही]**  
संक्रामक 169.14

**छुतहा रोग**  
संक्रामक रोग 163 4

**छुनछुन**  
छनछनाहट 297 18

**छुप छुपीवल**  
आँख मिचौनी 476 2

**छुमछुम**  
छमछम 296 8

**छुरा**  
उरुत 561 2  
कृपा 924 1  
छुरा 561 8 ⇌  
नशतर 174 20

**छुरित**  
आलेपित 292.13  
खचित 406 42  
पुत [पुनी] 291 19

**छुरी**  
कटलरी सूची 681 14  
छुरी 561 9 ⇌

**छुरी कौंटे**  
कटलरी 681 13

**छुरी: फला**  
फला 270 9

**छुहारा**  
छुहारा 191 8 ⇌  
मेघा सूची 191 2

**छुंछा [छुंछी]**  
अविचारक 330 23  
उथला [उथली] 984 8  
कगाल 627 21  
पोला [पोली] 271 25

**छु**  
छु मतर 474 16

**छु कर पता करना**  
टटोलना 336 21

**छुचक**  
स्त्री स्तन 146 7

**छुछा [छुछी]**  
अधम 840 4  
रिक्त 1005 7

**छुट**  
अनिषेध 880.2  
अनुपस्थिति 1022 2  
अनुमति 337.5  
अवकाश अनुमति 494 8  
क्षमा 872 1  
तलाक 804 8  
नियत काल 39 1  
प्राण क्षमा 250 2  
मोहलत 39 5  
यान प्रस्थान 1082 24  
रिआयत 664 16  
स्वेच्छापूर्णता 650 6

**छुट कर पलायन करना**  
त्राण पलायित होना 916 12

**छुट जाना**  
भूल होना 498 5  
समाप्त न हो पाना 523 5

**छुटना**  
अवसर उपभोग न करना 70.12  
आज्ञा मुक्त होना 348 5  
उन्मुक्त होना 1015 6  
परित्यक्त होना 1003.2  
प्रक्षिप्त होना 1052 13  
भूल होना 498 5  
यान प्रस्थान करना 1082 26  
वियोग होना 388 5  
विलग होना 1011 3  
समाप्त न हो पाना 523 5

**छुट निकलना**  
त्राण पलायित होना 916 12

**छुटने वाला रंग**  
कच्चा रंग 289 25

**छुटा [छुटी]**  
अपराध मुक्त 869 9  
उन्मुक्त 1015 9

**छुत**  
रोग संक्रमण 169 8  
स्पर्श 269 2  
स्पर्शित 269 14

**छुत उतारना**  
भूत उतारना 759 18

**छुत की बीमारी**  
संक्रामक रोग 163 4

**छुतग्रस्त**  
संक्रामित 169 13

**छुतछात**  
आहार अशौच 198 7

**छुत झांकना**  
भूत उतारना 759 18

**छुत लगना**  
संक्रामित होना 169 11

## छूता [छूती]

### छूता [छूती]

सटा [सटी] 31 8

### छूना

सटना 31.6

स्पर्श करना 269.9

### छूने वाला

स्पर्श कर्ता 269 15

### छू मंतर

छू मंतर 474.16 ⇨

छू मंतर कृत 474 39

जादुई मंत्र 474 28

### छू मंतर करना

अभिमंत्रण करना 758.33

छू मंतर करना 474.34 ⇨

### छू मंतरः कर्म

छू मंतरः कर्म 474.15 ⇨

### छू मंतर कृत

छू मंतर कृत 474.39 ⇨

### छूम छनक

छमछम 296.8

### छूम छनन

छमछम 296.8

### छेकना

घेरना 604 22

व्याप्त होना 981.8

### छेक

नागरतापूर्ण 733.16

पालतू पशु 127 3

प्रवीण 303.22

बुद्धिमान 301 21

मधुमक्खी 122 39

### छेक

कार्य आरंभ 521 1

छेड़छाड़ 385 7

छेड़छाड़ 708 5

ठेस 1051 17

विनोद 385 1

### छेड़खानी

छेड़छाड़ 708 5

### छेड़खानी

छेड़छाड़ 385 7

विनोद प्रेम 385 2

### छेड़छाड़

छेड़छाड़ 385.7 ⇨

छेड़छाड़ 708.5 ⇨

नटखटपन 860 10

विनोद प्रेम 385.2

### छेड़छाड़ करना

छेड़छाड़ करना 385.12 ⇨

### छेड़ना

आरंभ करना 994 11

कार्य आरंभ करना 521 5

गाना 460 43

छेड़छाड़ करना 385 12

प्रसंग छेड़ना 437 9

बजाना 461 103

युद्ध आरंभ करना 907.35

विनोद करना 385 9

### छेसा

अंतर्वेधक 271 21

कर्तक 543 16

नाशक 531 8

### छेव

कथ्यप पृष्ठ 134 19

छिद्र 271.6

जाल रंध 572 19

बिल 603 7

शरीर रंध 138 1

सूई नाका 562 24

### छेवक

अंतर्वेधक 271.21

विभाजक संख्या 955.15

### छेव कर निकल जाना

आपारण होना 998.2

### छेवन

अंतर्वेधन 271 1

भाग कर्म 955.13

### छेवनहार

कर्तक 543.16

### छेवनहारा [छेवनहारी]

अंतर्वेधक 271 21

### छेवना

उत्कीर्ण करना 406 36

छेदना 271.20 ⇨

बरमा करना 564.11

सूजा 562 26

### छेवनी

अंतर्वेधक 271 21

### छेव भरना

रुद्ध करना 272.7

### छेदि

इंद्र यज्ञ 928 8

### छेदी

अंतर्वेधक 271 21

### छेदीला [छेदीली]

छिद्रिल 271 24

### छेघ

वेध 518.19

### छेघला

वेध्यता 518 7

### छेना

छेना 193.13 ⇨

### छेना जल

पनीर जल 193.15

### छेना: टिकिया

पनीर 193 14

### छेनी

छेनी 559.20 ⇨

### छेपटी

खपच 938.10

### छेयना

ताड़ निर्यास 84.9

### छेकी

खता 15.4

### छेनी

छेनी 559.20

### छेनी उत्कीर्ण

छेनी उत्कीर्णन 406.22 ⇨

### छेल छबीला

शृंगार प्रेमी (पुरुष) 222.5

### छेल छबीला [छेल छबीली]

रसिक 837.18

### छेल छबीली

शृंगार प्रेमी (स्त्री) 222.6

### छेला

शृंगार प्रेमी (पुरुष) 222.5

### छेला [छेली]

बाँका [बाँकी] 860.23

रसिक 837.18

### छेलापन

फ़ैशनप्रियता 222.13

शृंगार प्रेम 222 4

### छोआ

चाशानी: मल 280 6

### छोई

ईख: फोक 526 3

फोक 526.2

मत्स्य शल्क 134 18

### छोकरा

आवासीय सेवक 651.4

लड़का 230 25

### छोकरी /

आवासीय सेविका 651 5

लड़की 230.26

### छोटबकाई

असमकक्षता 851.2

### छोटा [छोटी]

अकुलीन 728.16

अधम 840.4

अनुज [अनुजा] 723.25

अप्रतिष्ठित 850 5

अप्रधान 853 9

अल्पोष्व 982.9

अवयस्क 229.22

आकार से छोटा 961.17

कनिष्ठ 229.26

जेबी 672.11

ठिंगना 154 18

तंग [परिधान] 583.27

नगण्य 853 10

न्यूनशरीय 939.15

महत्त्वहीन 853.8

लघु 980 20

लघुकाय 154 28

संकीर्ण 980.29

सक्षिपा 980.24

ह्रस्व मात्रा युक्त 410.24

### छोटा इत्रवान

इत्रदानी 274.10

### छोटाई

लघुता 980.1

### छोटा उत्क्रांत

छोटा उत्क्रांत 21.4 ⇨

### छोटा उपन्यास

उपन्यासिका 450.9

### छोटा कक्ष

कोठरी 614.3

### छोटा कटोरा

छोटा कटोरा 683.4 ⇨

### छोटा कण

कणी 938 3

### छोटा क्रद

ठिंगना क्रद 154.5

### छोटा करना

कम करना 980 13

सारांश करना 449.22

### छोटा कीट

छोटा कीट 122.10 ⇨

### छोटा कुप्पा

कुप्पी 678.9

### छोटा कूप

छोटा कूप 19.4 ⇨

### छोटा गगरा

छोटा घड़ा 679 2

### छोटा गड्ड

गड्डी 686.12

### छोटा गद्दा

छोटा गद्दा 593.41 ⇨

### छोटा गिलास

छोटा गिलास 684.10 ⇨

### छोटा गुंबद

छोटा गुंबद 611 6 ⇨

### छोटा गोल पासा

गोटी 479.1

### छोटा गोला

प्रेनेड 927 13

### छोटा ग्राम

छोटा ग्राम 620.4 ⇨

### छोटा ग्रास

छोटा ग्रास 181.27 ⇨

### छोटा घड़ा

छोटा घड़ा 679.2 ⇨

### छोटा घर

छोटा भवन 602 9

### छोटा चम्मच

छोटा चम्मच 681 17 ⇨

### छोटा चित्र

मध्यक 1002.9

### छोटा चूहा

चुहिया 127 61

### छोटा छाता

छतरी 584.32

### छोटा छिद्र

छोटा छिद्र 271.12 ⇨

### छोटा टोकना

टोकनी 679.32

### छोटा टोकरा

टोकरी 677.5

### छोटा डक

डफली 461.40

**छोटा डेर**  
छोटा डेर 686.7 ⇨  
**छोटा तंबू**  
छोटा तंबू 600.20 ⇨  
**छोटा तराजू**  
स्वर्ण तराजू 962.15  
**छोटा ताल**  
तलेया 18 8  
**छोटा तालाब**  
छोटा तालाब 18.11 ⇨  
**छोटा तोला**  
छोटा तोला 962.44 ⇨  
**छोटा दरवाजा**  
विकट कपाट 609 7  
**छोटा दस्ता**  
छोटा दस्ता 932.25 ⇨  
**छोटा दुर्ग**  
छोटा दुर्ग 620 8 ⇨  
**छोटा द्वार**  
छोटा द्वार 608 13 ⇨  
**छोटा नगर**  
ऋसबा 620.6  
**छोटा नरम पीधा**  
पीद 113.5  
**छोटा नागपुर पहाड़ियाँ**  
भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1  
**छोटा नाला**  
नाली 23 12  
**छोटा पक्षी**  
छोटा पक्षी 126 3 ⇨  
**छोटापन**  
अधमता 840 1  
अनुजता 723 11  
लघुकायता 154 9  
लघुता 980 1  
संकीर्णता 980.11  
**छोटा परदा**  
टीसी स्क्रीन 606 6  
**छोटा परिवार**  
नियोजित परिवार 240 3  
**छोटा पर्वत**  
छोटा पर्वत 16.5 ⇨  
**छोटा पीड़ा**  
पीड़ी 595.20  
**छोटा पूला**  
छोटा पूला 686.20 ⇨  
**छोटा प्याला**  
प्याली 684 13  
**छोटा फोका**  
फुसी 167.1  
**छोटा फ़ॉस**  
पॉडियेरि 28.50  
**छोटा बका**  
असमाकार 978.5  
**छोटा बका [छोटी बकी]**  
असमकक्ष 851.6  
**छोटा बिछौना**  
छोटा बिछौना 593.48 ⇨

**छोटा बोरा**  
बोरी 673.20  
**छोटा भवन**  
छोटा भवन 602.9 ⇨  
**छोटा भाई**  
छोटा भाई 723 12 ⇨  
**छोटा भाई: पत्नी**  
छोटा भाई पत्नी 724.27 ⇨  
**छोटा भाला**  
छोटा भाला 925 5 ⇨  
**छोटा भूकप**  
भूस्वंदन 9 16  
**छोटा मंडप**  
छोटा मंडप 600.15 ⇨  
**छोटा मंदिर**  
छोटा मंदिर 745 31 ⇨  
**छोटा मठ**  
छोटा मठ 745 8 ⇨  
**छोटा मूबा**  
मुबिया 595 21  
**छोटा रंगीन लिहाफ़**  
रजाई 593 15  
**छोटा रास्ता**  
सक्षिप्त मार्ग 1063 4  
**छोटा लिहाफ़**  
छोटा लिहाफ़ 593.14 ⇨  
**छोटा वृक्ष**  
छोटा वृक्ष 111 20 ⇨  
**छोटा शीतित्र**  
रूम कूलर 105 7  
**छोटा संदूक**  
सदूकधी 676 18  
**छोटा साइज़**  
छोटा साइज़ 961.8 ⇨  
**छोटा हथौका**  
हथौड़ी 559 41  
**छोटा हरा पेड़**  
पीधा 111 14  
**छोटा होना**  
कम होना 980 12  
सिकुड़ना 980 17  
**छोटी अलमारी**  
छोटी अलमारी 671 2 ⇨  
**छोटी औत**  
भुद्रांत्र 152.4  
**छोटी इलायची**  
छोटी इलायची 281.9 ⇨  
**छोटी रँगली**  
कनिष्ठिका 150 19  
**छोटी उमर**  
अल्प आयु 229 4  
**छोटी कटोरी**  
छोटी कटोरी 683.7 ⇨  
**छोटी कमान**  
छोटी कमान 1076 25  
**छोटी कमानी**  
छोटी कमानी 1076.25 ⇨

**छोटी कहानी**  
छोटी कहानी 450.10 ⇨  
**छोटी कील**  
बिरजी कील 1016 12  
**छोटी केक**  
टिकिया 977 13  
**छोटी खाट**  
छोटी खाट 594.8 ⇨  
**छोटी खिड़की**  
गवाक्ष 608.15  
**छोटी गठरी**  
छोटी गठरी 674 4 ⇨  
**छोटी गाड़ी**  
छोटी गाड़ी 1071.30 ⇨  
**छोटी चोरी**  
उठाईगीरी 864 10  
**छोटी जेब**  
टिकट पाफिट 672 2  
**छोटी तरंग**  
छोटी तरंग 1040.2 ⇨  
शौट वेव 1040 12  
**छोटी तलवार**  
खंडा 924.2  
**छोटी दीवार अलमारी**  
छोटी दीवार अलमारी 671.3 ⇨  
**छोटी दुकान**  
छोटी दुकान 662.2 ⇨  
**छोटी नथ**  
छोटी नथ 228.16 ⇨  
**छोटी नदी**  
छोटी नदी 20 4 ⇨  
**छोटी ननद**  
छोटी ननद 724.33 ⇨  
**छोटी नहर**  
उप नहर 23 4  
**छोटी नौद**  
कूड़ी 679 45  
**छोटी नाब**  
रक्षा नौका 1072.32  
**छोटी नाब उठाई गिराई चक्री**  
डेवित 1073 29  
**छोटी नौका**  
छोटी नौका 1072 13 ⇨  
**छोटी पतीला**  
पतीली 682 14  
**छोटी पहाड़ी**  
छोटी पहाड़ी 16.6 ⇨  
**छोटी बहन**  
छोटी बहन 723.14 ⇨  
**छोटी बूद**  
छोटी बूद 88.12 ⇨  
**छोटी बैलगाड़ी**  
छोटी बैलगाड़ी 1071 43 ⇨  
**छोटी मात्रा**  
लघु मात्रा 452.39  
ह्रस्व मात्रा 410.19  
**छोटी लहर**  
छोटी लहर 1040.20 ⇨

**छोटी लाइन**  
ब्रांच लाइन 1066 18  
**छोटी ली**  
लतरी 134 12  
**छोटी सड़क**  
छोटी सड़क 1063 36 ⇨  
**छोटी सरसों**  
साई 196.19  
**छोटी साली**  
छोटी साली 724 40 ⇨  
**छोटी हाज़री**  
उपाहार 200 1  
जलपान गोष्ठी 183 6  
**छोटू**  
ठिंगना व्यक्ति 154.6  
शिशु 230 3  
**छोटू राम**  
ठिंगना व्यक्ति 154 6  
**छोटे दिल वाला**  
संकीर्णहृदय 818 10  
**छोटे में**  
साराशत 449 33  
**छोटे लोग**  
अकुलीन जन 728 10  
लघुजन समष्टि 722 2  
**छोड़ चिट्ठी**  
ऋणमुक्ति पत्र 633 17  
**छोड़ चुट्टी**  
तलाक़ 804 8  
**छोड़ देना**  
न लेना 639 13  
प्राण क्षमा करना 250 11  
**छोड़ना**  
अपराध मुक्त करना 869 6  
अवतारण करना 1080 36  
उन्मुक्त करना 1015 7  
क्षमा करना 872.6  
तलाक़ देना 804 23  
दाघपत्य परित्याग करना 804 20  
न भोगना 364.6  
न लेना 639 13  
निषिद्ध काम छोड़ना 880 7  
नीचे फेंकना 1052 18  
परित्याग करना 1003 3  
प्रक्षेपण करना 1052.14  
रिआयत देना 664 26  
विस्फोट प्रणोदित करना 1051.21  
शस्त्र चलाना 930 5  
स्थान त्यागना 1036.10  
**छोड़ने वाला**  
उन्मोचक 1015.10  
परित्यागी 1003 6  
**छोका [छोकी]**  
अवतारित 1080 42  
परित्यक्त 1003 4  
परित्यक्त 804.26  
प्रक्षेपित 1052 19

## छोड़ा जाना

### छोका जाना

परित्यक्त होना 1003 2

### छोप

दबोच 868 6

मोटा आलेप 292 2

### छोपना

दबोचना 868 31

मिथ्या आरोप लगाना 875 23

### छोर

छोर 1000 3 ⇨

तट 25 8

नितात अत 995 2

नोक 270 8

पलाव 586 24

सीमा 1001 1

### छोरटी

लड़की 230 26

### छोर पर

छोर पर 1000 16 ⇨

### छोरस्थ

छोरस्थ 1000 15 ⇨

### छोरहीन

असीम 1001 34

### छोरा

आवासीय सेवक 651 4

पुत्र 718 3

लड़का 230 25

### छोरी

आवासीय सेविका 651 5

पुत्री 718 10

लड़की 230 26

### छोलदारी

छोटा तबू 600 20

### छोला

घना 188 11

### छोले

छोले 201 13 ⇨

### छोह

प्रेम 368 1

स्नेह 368 10

### छोहगर

प्रेम कर्ता 368 19

स्नेही 368 24

### छोहना

अत्यधिक लाड़ करना 721 10

लाड़ करना 721 9

स्नेह करना 368 16

### छोहरा

लड़का 230 25

### छोहरी

लड़की 230 26

### छोही

प्रेमी 368 2

स्नेही 368 24

### छोक

छोक 195 17 ⇨

### छोक: कलछा

छुकाई कलछा 681 3

### छोकना

आहार सुवासित करना 281.40

### छोकना

छोकना 195.48 ⇨

### छोना [छोनी]

पशु शिशु 230 11

## ज

### जंक (अँ)

नीका सूची 1072 3

### जंकशन (अँ)

रेलवे जंकशन 1069 4

### जंग

धातु मल 214 5

### जंग

युद्ध 905.4

### जंग

लौह मल 214 6

### जंगजू

युद्ध प्रेमी 907 42

योद्धा 934 15

### जंगम

जंगम 1037.18 ⇨

पर्यटनशील 1090 45

### जंगम गुल्म

पद सेना 932 12

### जंगम जगत

चेतन जगत 121 1

### जंगमता

जंगमता 1037 2 ⇨

### जंगमता (दे.)

सचलता 1037 3

### जंगमता स्थावरता

जंगमता स्थावरता 1037 1 ⇨

### जंगम स्थावर

जंगम स्थावर 1037 17 ⇨

### जंगम होना

जंगम होना 1037.12 ⇨

### जैगरित

परिभ्रमी 493 9

### जंगरोधी इस्पात

स्टेनलेस स्टील 93 15

### जंगल

आखेट स्थल 252 22

निर्जन स्थान 617 7

वन 12.1

शौच स्थान 216 17

### जंगल को लोटना

असभ्य बनना 734 11

### जंगल में मंगल

वन विहार 1085 9

### जँगला

कटहरा 605 2

जाफरी 605 3

तिकोना बूटा 578 16

शलाका कपाट 609 9

### जंगली

अपालतु 127.96

वनवासी 616 21

वन्य 12 36

वन्यतापूर्ण 734 17

### जंगली कुत्ता

गीदड़ 127 75

### जंगली खैर

सतबहनी घरखी 126 36

### जंगली जानवर

वन्य पशु 127 2

### जंगलीपन

असभ्यता 734 1

दानवीयता 734 4

### जंगली बिल्ली

बन बिलाव 127 59

### जंगली बेर

बेरी 190.29

### जंगली बँसा

अरना 127 21

### जंगली मांस

आखेट मांस 206 14

### जंगली रास्ता

पशुपथ 1063 48

### जंगली वृक्ष

वन्य वृक्ष 11.22

### जंगाल

मेड़ 551 22

### जंगाधर

योद्धा 934 15

### जंगी

कलहप्रिय 708 13

महाकाय 154 22

यौद्धिक 905 33

सैन्य 932 34

### जंगी जहाज़

नीसेना पोत 1072 43

### जंगी बेड़ा

नीसैनिक बेड़ा 1072 52

### जंगे आज्ञादी

स्वतंत्रता सग्राम 904 1

### जंघा

जॉघ 149 13

### जंघाकार

दोड़ाक 484 15

दुतगामी [दुतगामिनी] 1044 7

धावक संदेश वाहक 443 4

### जंघाल

दोड़ाक 484 15

दुतगामी [दुतगामिनी] 1044 7

हिरन 127 42

### जंघास्थि

जॉघ अस्थि 133 18

### जँघता [जँघती]

शोभायुक्त 226 11

### जँघना

पसंद आना 400 10

शोभाञ्चित होना 226 7

### जँघा [जँघी]

आकलित 947 21

### जँघाई

आकलन कर्म 947.6

### जँघाव

शोभा 226 1

### जँघावदार

शोभायुक्त 226 11

### जँघाल

खटराग 747 4

भ्रामक मार्ग 1063.5

### जँघालिया

कलहप्रिय 708 13

### जँजीर

कठहार 228 26

क्षेत्र मापन उपकरण 959 34

गला जँजीर 555 13

चेन स्टिच 572 11

ज़िप 571 18

बेड़ी 868 25

लड़ी 228 38

शुखला 569 26

सॉकला 609 23

### जँजीर कवच

जँजीर कवच 921.4 ⇨

### जँजीरखाना

कारागार 868 21

### जँजीरा

चेन स्टिच 572 11

### जँजीरे की कढ़ाई

चेन स्टिच 572 11

### जंतर

गंडा तावीज़ 759 4

यंत्र 558 10

सिद्धिदायक यंत्र 758.13

### जंतर मंतर

अभिमंत्रण 758 6

गंडा तावीज़ 759 4

जादुई मंत्र 474 28

टोना टोटका 759 1

तंत्र क्रिया 758.3

यंत्र सिद्धि 758.10

वेधशाला 1 7

### जंतर मंतर करना

तंत्र करना 758 32

### जंता

नियंत्रक 899 12

यंत्र 558 10

### जंतु

कीट 122.9

जीव 121 4

पशु 127 1

### जंतु आवास

जीव आवास 603 1

### जंतुका

लाक्षा कीट 122 41

### जंतु प्रशिक्षण

जीव प्रशिक्षण 555 9



**जंतुराला**  
 शिदिया घर 603 10  
**जंत्र**  
 गंडा तावीज़ 759 4  
 ताला 609.24  
**जंत्र मंत्र**  
 गंडा तावीज़ 759 4  
 जादुई मंत्र 474 28  
 तंत्र क्रिया 758 3  
**जंत्री**  
 पचांग 41 1  
 वीणा 461 77  
**जंदरा**  
 यंत्र 558 10  
**जंप (अँ)**  
 उछल 1030 8  
 कूद 1086 3  
 छलौंग 1086 10  
**जंपर**  
 जंपर 585.39 ⇨  
**जंपर (अँ)**  
 जंपर 585 39  
**जंबु**  
 जामुन 190 20  
**जंबुक**  
 लोमड़ी 127 79  
**जंबु द्वीप**  
 दक्षिण एशिया 27 2  
 पौराणिक महाद्वीप सूची 26 7  
**जंबुर**  
 अभ्रक 283 16  
**जंबुल**  
 जामुन 190.20  
**जंबू**  
 जामुन 190 20  
 पौराणिक नदी सूची 20 23  
**जंबुक**  
 गीदड़ 127 75  
 जामुन 190 20  
 वरुण 773 43  
**जंबुकी**  
 मादा गीदड़ 127.76  
**जंबूर**  
 भिड़ 122 34  
 मधुमक्खी 122.39  
 शिकजा 559 47  
**जंबूरक**  
 तोप चर्य 1077.35  
 भेंवर कली 1077 18  
 शिकजा 559.47  
**जंबो साइज (अँ)**  
 बका साइज 961 13  
**जंभ**  
 असुर सूची 783 8  
 खंड 938.1  
 जैभाई 266.10  
 ठोड़ी 140.20  
 तरकस 926.22

दाढ़ 144 7  
 नीचे का जबड़ा अस्थि 133 10  
 हिरण्य कशिपु पुत्र सूची 769 27  
**जैभाई**  
 जैभाई 266.10 ⇨  
**जैभारि**  
 अग्नि 106 1  
 इन्द्र 773 5  
 इन्द्र यज्ञ 928.8  
**जैभारिथि**  
 नीचे का जबड़ा अस्थि 133.10  
**जैभीर**  
 घकोतरा 190.18  
**ज [जा]**  
 उत्पन्न 546 9  
**-ज [-जा]**  
 जन्मा [जन्मी] 248.10  
**जई**  
 जई 187.13 ⇨  
 जी अंकुर 113 2  
**जक्रंब**  
 छलौंग 1086 10  
**जकंदना**  
 झपट्टा मारना 914.15  
**जक**  
 यक्ष 779 1  
**जकड़**  
 जकड़न 392 10  
**जकड़न**  
 कसन 1013 4  
 जकड़न 392.10 ⇨  
 तितुरन 105 4  
**जकड़ना**  
 कसना 1013 18  
 तितुरना 105 18  
 पाशबद्ध करना 868 32  
**जकड़बंद**  
 कसा [कसी] 1013 25  
**जकड़ा [जकड़ी]**  
 कसा [कसी] 1013 25  
 पाशबद्ध 868 38  
**जकड़ापन**  
 प्रस्तता 1013 2  
**जकर**  
 इस्मात 93.11  
**जकरिया: पुत्र**  
 यहिया 791 25  
**जकात**  
 दान 641 1  
 बघत चालीसवाँ भाग 645 2  
**जका (ईरान)**  
 यज्ञ 753 1  
**जका (फारसी)**  
 यक्ष 779 1  
**जखनी**  
 यक्ष स्त्री 779.2  
**जखीरा**  
 कोशागार 630 3

वेर 886.6  
 पीढ़ ख्यारी 551 18  
 भंडार 670 3  
**जखीरवार**  
 जमाखोर 865 15  
**जखन**  
 व्रण 167 12  
**जखमी**  
 आहत 168.6  
 घायल 168 7  
**जखमे जिगर**  
 मनोव्यथा 391 7  
**जग**  
 जग 679.14 ⇨  
**जग (अँ)**  
 जग 679 14  
**जगख्यात**  
 विश्व विख्यात 847 4  
**जगजयी**  
 विश्व विजेता 912.20  
**जग जाना [जग जानी]**  
 ख्यात 847 3  
**जगजाहिर**  
 विश्व विख्यात 847 4  
 सर्व संज्ञात 441.21  
**जगज्जनी**  
 प्रथम स्त्री 236.4  
**जगज्जयी**  
 विश्व विजेता 912 20  
**जगण ( IS I )**  
 वार्षिक गण सूची 452 43  
**जगत**  
 इहलोक 258 11  
 कुआँ. घबूतरा 610 11  
 धेतन जगत 121.1  
 जड़ धेतन जगत 78 1  
 जीव जगत 121 3  
 परिधि 972 4  
 पृथ्वी 9.1  
 जगत एकमात्र सत्य है  
 शैतिकतावाद 760 22  
**जगत: कारण**  
 माया 762 9  
**जगत गुरु**  
 विश्वगुरु 323 6  
**जगत ज्ञान**  
 विज्ञान 307 1  
**जगत सेठ**  
 जगत सेठ 626 9 ⇨  
**जगती**  
 पृथ्वी 9 1  
**जगतीचर**  
 मानव 128 1  
**जगतीय**  
 ब्रह्मांडीय 1 15  
**जगत्कर्ता**  
 ब्रह्मा 766 1

**जगत्प्रसिद्ध**  
 विश्व विख्यात 847.4  
**जगदंबा**  
 दुर्गा 776 7  
**जगदाचार्य**  
 महाचार्य 790 3  
**जगदात्मा**  
 ईश्वर 764.1  
**जगदाविज**  
 विष्णु 768.1  
**जगदाधार**  
 काल 36 1  
 वायु 85 1  
**जगदालोक**  
 ईसा 791 8  
**जगदीश**  
 ईश्वर 764.1  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767.1  
**जगदीश्वर**  
 इन्द्र 773 5  
 ईश्वर 764.1  
 विष्णु 768.1  
 शिव 767 1  
**जगद्गुरु**  
 त्रिदेव 765.9  
 महाचार्य 790.3  
 विश्वगुरु 323 6  
 शिव 767 1  
**जगद्गीरी**  
 दुर्गा 776 7  
 मनसा 774 62  
**जगदीप**  
 सूर्य 8 1  
**जगद्धाता**  
 ब्रह्मा 766 1  
**जगद्धात्री**  
 सरस्वती 775 8  
**जगद्योनि**  
 त्रिदेव 765 9  
**जगद्धा**  
 पृथ्वी 9 1  
**जगद्धिख्यात**  
 विश्व विख्यात 847 4  
**जगना**  
 जागना 265.5  
**जगन्नाथ**  
 ईश्वर 764 1  
 विष्णु 768 1  
 विष्णु मूर्ति सूची 746 7  
 शिव 767 1  
**जगन्नाथ मंदिर**  
 जगन्नाथ मंदिर 745 34 ⇨  
**जगन्नाथ रथ यात्रा**  
 रथ यात्रा 57 19  
**जगन्नियंता**  
 ईश्वर 764.1

## जगन्निवास

**जगन्निवास**  
विष्णु 768 1  
**जगन्मयी**  
लक्ष्मी 775 1  
**जगन्माता**  
दुर्गा 776 7  
प्रथम स्त्री 236 4  
लक्ष्मी 775 1  
ललिता देवी 774 80  
**जगन्निध्या**  
मायावाद 760 23  
**जगन्नीहिनी**  
दुर्गा 776 7  
योग माया 771 82  
**जगन्बीती**  
जगन्बीती 450.18 ⇌  
**जगन्भाता पहनना**  
फ़ेशन करना 222 16  
**जगन्मग**  
आलोकित 285.45  
दीप्त 287.34  
**जगन्मग करना**  
दीप्त होना 287 27  
**जगन्मगाना**  
आलोकित होना 285 38  
दीप्त होना 287 27  
**जगन्मगाहट**  
दीप्ति 287 16  
**जगन् मगर**  
दीप्त 287 34  
दीप्ति 287 16  
**जगन्मरता**  
रतजगा 749 24  
**जगह**  
गुजाइश 33 8  
धारण क्षमता 966 4  
पददी 652 1  
पोल 271 17  
रिक्त पद 653 2  
शून्य स्थान 33 4  
स्थान 33 1  
**जगह जगह**  
घतुर्दिशत 29 36  
**जगह पर**  
स्थानापन्नत 653 40  
**जगह से हटाना**  
विस्थापित करना 1036 12  
**जगा [जगी]**  
उत्प्रेरित 499 8  
उद्बोधित 499 10  
जाग्रत 265 7  
**जगाई**  
उज्जागरण 265 3  
**जगाना**  
उत्प्रेरित करना 499 5  
दीप जलाना 285 40  
यत्र साधना करना 758 35

**जगाना कर्म**  
उज्जागरण 265 3  
**जगाने बाला**  
उज्जागरक 265 8  
प्रभाती गायक 460.35  
**जग्मि**  
वायु 85 1  
**जघन**  
नितब 148 13  
सेना पृष्ठ 933 3  
**जघन कूप**  
कूल्हा गड़दा 148.12  
**जघन्य**  
घृणित 370 6  
**जघगी**  
प्रसव 244 1  
प्रसव अवस्था 244 3  
**जघा**  
जनयित्री 243 11  
प्रसूता 244.2  
**जघ्या**  
प्रसूता 244.2  
**जघ्याश्राना**  
प्रसूति कक्ष 244 7  
**जघ्या गीत**  
सोहर गीत 796 19  
**जघ्याघर**  
प्रसूति कक्ष 244 7  
**जज (अँ)**  
नाट्य सिद्धि निर्णायक 468 31  
न्यायाधीश 874 15  
**जजमान**  
यजमान 743.6  
**जजमानी**  
पुरोहित कर्म 744.10  
यजमानत्व 743 5  
**जजमैट (अँ)**  
न्याय निर्णय 877 14  
**जजा**  
पुण्य फल 260 11  
प्रतिफल 510 3  
**जजिग (अँ)**  
नाट्य सिद्धि निर्णय 468 30  
**जजीरा**  
द्वीप 26 1  
**जजीरानुमा**  
प्रायद्वीप 26 9  
**जज्व**  
अवशोषित 1002 29  
**जज्व करना**  
अवशोषित करना 1002 20  
स्वागीकृत करना 1002.17  
**जज्वा**  
उत्साह 491 1  
भाव 358 1  
**जज्वाती**  
भावपूर्ण 358 25  
भावुक 358.26

**जटना**  
मुनाफ़ाख़ोरी करना 865.22  
**जटस्ली**  
गपशप कर्ता 435.27  
बकवासी 428.26  
**जटा**  
जटा 112.17 ⇌  
जटा 137.7 ⇌  
रेशोदार मूल 112.12  
**जटाजूट**  
असंवृत केरा 223.6  
जूड़ा बँधी जटा 137.9  
शिव जटा 767.7  
शिव जटा 137 8  
**जटाधर**  
जटाधारी 137 21  
शिव 767 1  
**जटाधारी**  
जटाधारी 137.21 ⇌  
ब्रह्मधारी 234 4  
शिव 767.1  
साधु संन्यासी 790.1  
**जटा मंडल**  
जूड़ा बँधी जटा 137.9  
**जटामाली**  
शिव 767 1  
**जटायु**  
जटायु 770.27 ⇌  
जटायु गिद्ध 126.28  
जटायु गिद्ध  
जटायु गिद्ध 126.28 ⇌  
जटायु गूढ  
जटायु गिद्ध 126.28  
**जटाल**  
जटाधारी 137.21  
बरगद 13.16  
**जटायस्ली**  
शिव जटा 137 8  
**जटा शंकरी**  
गंगा नदी 20.10  
**जटित**  
पच्चीकृत 406 43  
फ़िटिड 1016 44  
विजडित 1016 42  
**जटिल**  
असमाधान्य 335.12  
उलझा [उलझी] 573 20  
कूट 823 12  
दुर्बोध्य 519 23  
शिव 767 1  
साधु संन्यासी 790 1  
**जटिलता**  
असमाधान्यता 335.4  
उलझन 573 6  
रोग विकृति 163.11  
**जटिल प्रश्न**  
समस्या 333 11

**जटिला**  
ब्रह्मधारिणी 234.5  
**जटी**  
जटाधारी 137.21  
बरगद 13 16  
**जटदू**  
मुनाफ़ाख़ोर 865.27  
**जठर**  
उदर 148.6  
गर्भाशय 152 14  
**जठर रक्त**  
पाथय्य 129.7  
**जठरगनि**  
क्षुधा 180.1  
पाथन शक्ति 178.2  
वैद्यक अग्नि सूची 106.7  
**जठरिन (प्र)**  
पैपसिन 179 8  
**जठरोद्गार**  
उदान वायु 245.16  
**जडंत**  
विजडन 1016.1  
**जड**  
अप्रयत्नशील 490.9  
कंदमूल 189 3  
घेतनाहीन 264.20  
जड 78.23 ⇌  
निम्नता उपमान सूची 983 7  
मूल 112 10  
स्तम्भन कृत 758 42  
स्फूर्तिहीन 492.14  
**जड (दे.)**  
अजीवित 247 8  
अनुभूतिहीन 264 19  
**जड आना**  
मूल बनना 117 13  
**जड करना**  
गति हरना 1047.15  
**जड कोशिका**  
अजनन कोशिका 130 6  
**जड खोदना**  
उन्मूलित करना 548.43  
**जड घेतन जगत**  
जड घेतन जगत 78 1 ⇌  
**जड जगत**  
जड जगत 78.3 ⇌  
**जड जीव जगत**  
जड घेतन जगत 78.1  
**जडत**  
विजडन 1016 1  
**जडता**  
अप्रयत्न 490.1  
घेतनाहीनता 264.2  
जडता 78.4 ⇌  
मूर्खता 302.1  
वाधारुद्धता 429 8  
**जडता (दे.)**  
अनुभूतिहीनता 264 1

**जकस्युक्त**  
जक 78.23  
**जकरवीय बल**  
जकवीय बल 1050.5 ⇨  
**जकन**  
दृढ़ आधारण 1019.7  
**जकना**  
धुगली करना 843.19  
दृढ़ आधारित करना 1019.12  
पच्चीकारी करना 406.40  
फिट करना 1016.37  
विजडित करना 1016.36  
**जक निकलना**  
मूल बनना 117.13  
**जकने वाला**  
विजडन कर्ता 1016.43  
**जक पकड़ना**  
मूल बनना 117.13  
**जक पदार्थ**  
जक पदार्थ 78.5 ⇨  
**जक पदार्थता**  
जकता 78.4  
**जक प्रकृति**  
जक जगत 78.3  
**जक बनना**  
मूल बनना 117.13  
**जकबुद्धि**  
वप्रधी 302.9  
**जक मुख्य**  
वप्रधी 302.9  
**जक में जाना**  
तथ्यान्वेषण करना 336.16  
**जक में होना**  
कारणभूत होना 507.4  
**जक रसायन**  
अकार्बनिक रसायन 87.2  
**जकवाद**  
भीतिकतावाद 760.22  
**जक सुष्टि**  
जक जगत 78.3  
**जक से उखड़ा**  
उन्मूलित 548.57  
**जक से उखड़ाई**  
उन्मूलन 548.28  
**जक से उखड़ाकना**  
उन्मूलित करना 548.43  
**जक से निकालना**  
उन्मूलित करना 548.43  
**जकहन**  
खरीफ फ़सल 547.7  
**जक होना**  
गतिहृत होना 1047.14  
**जका [जकी]**  
दृढ़ आधारित 1019.21  
पच्चीकृत 406.43  
फिटिड 1016.44  
विजडित 1016.42  
स्थावर 1038.7

**जकाई**  
पच्चीकारी 406.32  
फिटिग 1016.2  
विजडन 1016.1  
**जकाई करना**  
विजडित करना 1016.36  
**जकाक**  
पच्चीकृत 406.43  
विजडित 1016.42  
**जका न होना**  
जंगम होना 1037.12  
**जकापन**  
स्थावरता 1038.1  
**जकाय**  
पच्चीकारी 406.32  
जकायदार  
पच्चीकृत 406.43  
**जकायल**  
ऊनी वस्त्र 579.9  
**जका होना**  
स्थावर होना 1038.4  
**जकित**  
पच्चीकृत 406.43  
**जकिमा**  
धेतनाहीनता 264.2  
**जकिया**  
जडिया 566.3 ⇨  
**जकी**  
जकी 176.3 ⇨  
**जकीकरण**  
गतिहरण 1047.1  
**जकी बूटी**  
जकी बूटी 111.13 ⇨  
जकी बूटी 176.2 ⇨  
**जकीभूत**  
गतिहृत 1047.21  
स्तभन कृत 758.42  
**जकीभूत करना**  
गति हरना 1047.15  
**जकीभूत कर्ता**  
गतिहर्ता 1047.22  
**जकीभूत होना**  
गतिहृत होना 1047.14  
**जकीया**  
ठितुरता [ठितुरती] 105.24  
विजडन कर्ता 1016.43  
**जकन**  
प्रयत्न 489.1  
युक्ति 517.1  
**जकाई**  
सञ्ज्ञापन 441.7  
**जकाना**  
धेतपनी देना 917.10  
सञ्ज्ञापित करना 441.13  
**जकाना [जकाई]**  
सञ्ज्ञापित 441.19  
**जकित**  
यति 790.8

**श्वेतांबर साधु** 790.26  
**जकी**  
जितेंद्रिय 364.14  
यति 790.8  
योगी 756.3  
**श्वेतांबर साधु** 790.26  
**जकी सती**  
श्रुति मुनि 789.1  
**जकुका**  
धमगादक 127.67  
लाक्षा 290.26  
**जक्या**  
दल 691.1  
सेना 932.1  
**जक्याबंद**  
गुटबंद 885.38  
**जक्याबंदी**  
गुटबंदी 885.10  
**जक्येदार**  
दल नायक 852.6  
**जक्येवारी**  
दल नायकता 852.5  
**जक्यु**  
हँसली 133.11  
**जकद**  
प्रहार 918.1  
प्रहार सीमा 918.2  
लक्ष्य 931.1  
**जकदा**  
ग्रस्त 1013.24  
पीड़ाग्रस्त 392.28  
**जकदि**  
र दि 507.12  
**जकधी**  
दायागत 623.27  
**जकधो जकद**  
आदोलन 902.8  
बहुविध प्रयत्न 489.3  
संघर्ष 905.1  
**जकन**  
क़बीला 729.11  
जनता 883.5  
जाति 730.1  
प्रजा 883.6  
**जकन**  
मादा 236.22  
**जकन**  
व्यक्ति 689.1  
समाज 688.1  
समूह 690.1  
**जकन**  
स्त्री 236.3  
**जकन आदोलन**  
आदोलन 902.8  
**जकनक**  
उत्पादक 546.13  
जनक 770.28 ⇨  
जनयिता 243.10

पिता 717.4  
पिता माता 717.1  
सीता पिता 770.68  
**जनक बुलारी**  
सीता 770.66  
**जनक ह्वय**  
पिता माता 717.1  
**जनकः पुत्री सूधी**  
जनकः पुत्री सूधी 770.29 ⇨  
**जनकपुरी**  
जनक राजधानी 770.31  
**जनकः पुरोहित**  
जनक पुरोहित 770.32 ⇨  
**जनक राज**  
जनक 770.28  
**जनकः राजधानी**  
जनकः राजधानी 770.31 ⇨  
**जनकः राज्य**  
जनक राज्य 770.30 ⇨  
**जन कला**  
लोक कला 397.6  
**जन कल्याण**  
लोकोपकार 832.5  
**जन कथि**  
लोक कथि 448.20  
**जनक सुता**  
सीता 770.66  
**जनकाल्मजा**  
सीता 770.66  
**जनरखा**  
रिजडा 238.5  
**जनरखा [जनरखी]**  
स्त्री 236.25  
**जनरखापन**  
नपुंसकता 238.4  
**जन गणना**  
जन गणना 616.7 ⇨  
**जन गीत**  
लोक गीत 457.28  
**जनधनु**  
सूर्य 8.1  
**जनजाति**  
क़बीला 729.11  
**जनता**  
कला उपभोक्ता 399.2  
जनता 883.5 ⇨  
**जनता (बोलचाल)**  
सामान्य 311.3  
**जनता विषयक**  
जनता विषयक 883.9 ⇨  
**जन धन से**  
क्षमतापूर्वक 487.33  
**जनन**  
जनन 243.1 ⇨  
रघना कर्म 527.1  
वशा 727.1  
**जनन (दे.)**  
प्रसव 244.1

## जनन अक्षमता

### जनन अक्षमता

वध्याता 238 3

### जनन अशौच

जनन अशौच 198 8 ⇨

### जनन करना

जनन करना 243 8 ⇨

### जनन कर्ता

जनयिता 243 10

### जनन कोशिका

जनन कोशिका 130.5 ⇨

### जननक्षम

जननक्षम 238.12 ⇨

### जनन क्षमता

जनन क्षमता 238 1 ⇨

### जनन चिकित्सक

स्त्री रोग चिकित्सक 173 9

### जनन घुट्टी

प्रसव अवकाश 494 11

### जनन द्रव्य

जननव्य 130 1

### जनन विशेषज्ञ

स्त्री रोग चिकित्सक 173 9

### जननव्य

जननव्य 130 1 ⇨

### जननव्य (प्र)

जननव्य 130 1

### जननशील

चेतन 121 16

### जननशील जगत

चेतन जगत 121 1

### जनन संबंध

जनन संबंध 716 1 ⇨

### जनन सूतक

जनन अशौच 198 8

### जननहीन

वध्य 238 15

### जननहीनता

वध्यता 238 3

### जनना

जनन करना 243 8

पशु पक्षी द्वारा प्रसव करना 244 12

प्रसव करना 244 11

### जन नाट्य

लोक नाटक 463 13

### जननिका

जनन कोशिका 130 5

### जननिद (प्र)

जनिद 132 11

### जननी

जनयित्री 243 11

माता 717 7

मादा 236 22

### जन नृत्य

लोक नृत्य 462 6

### जननेद्रिय

कर्मेद्रिय सूची 268 8

जननेद्रिय 152 9 ⇨

स्त्री जननेद्रिय 152 12

### जननेद्रिय: 1

शरीर नी रघ सूची 138 3

### जननेद्रिय

जननेद्रिय 152 18 ⇨

### जनपति

दल नायक 852 6

### जनपथ

सार्वजनिक मार्ग 1063 8

### जनपद

क्षेत्र 34 1

जनपद 34 6 ⇨

### जनपद कल्याणी

वेरया 807.5

### जनपद केंद्र नगर

जनपदालय 620 16

### जनपद धर्म

स्थानानुसार आचरण 808 4

### जनपद न्यायाधीश

जनपद न्यायाधीश 874.16 ⇨

### जनपद परिषद

जनपद परिषद 892.7 ⇨

### जनपद प्रशासक

जनपद प्रशासक 891 5 ⇨

### जनपद मारी

महामारी 163 7

### जनपद समूह

जनपद समूह 34 7 ⇨

### जनपद समूह प्रशासक

जनपद समूह प्रशासक 891 6 ⇨

### जनपद स्तरीय

जनपद स्तरीय 35 3 ⇨

### जनपदाधीश

जनपद न्यायाधीश 874 16

जनपद प्रशासक 891 5

### जनपदालय

जनपदालय 620 16 ⇨

### जनपदीय

जनपदीय 34 15 ⇨

### जन पृच्छा

जनमत संग्रह 888 22

### जन प्रतिनिधि

जन प्रतिनिधि 888 25 ⇨

प्रतिनिधि सूची 888 27

### जन प्रतिनिधित्व

जन प्रतिनिधित्व 888 24 ⇨

### जन प्रदर्शन

जन प्रदर्शन 902 10 ⇨

### जन प्रयाद

प्रयाद 440 6

### जनप्रिय

धनिया 281 21

लोकप्रिय 849 22

सहिजन 281 32

### जनप्रियता

लोकप्रियता 849 9

### जन बल

जन बल संपत्ति 624 13

### जन बल संपत्ति

जन बल संपत्ति 624.13 ⇨

### जनम

आयु 229 1

जन्म 248 1

### जनम घुट्टी

घुट्टी 176 15

### जनमत

जनमत 343 6 ⇨

### जनमत संग्रह

जनमत संग्रह 888.22 ⇨

### जनमना

जन्म लेना 248 8

### जनमा [जनमी]

जन्मा [जन्मी] 248 10

### जनमाना

प्रसव करना 244 11

### जनमान्य

लोकमान्य 849 21

### जनमान्यता

लोकमान्यता 849.8

### जन मार्ग

सार्वजनिक मार्ग 1063 8

### जन मुरीद

पत्नी सेवक 805 9

### जनमेजय

जनमेजय 771.55 ⇨

### जनयिता

जनयिता 243 10 ⇨

नर 236 21

पिता 717 4

### जनयिता [जनयित्री]

उत्पादक 546 13

### जनयित्री

जनयित्री 243.11 ⇨

मादा 236 22

### जनयिष्णु

उत्पादक 546 13

जनयिता 243 10

### जन रंजन

लोकोपकार 832 5

### जनरल

जनरल 935 14 ⇨

### जनरल (अँ)

जनरल 935 14

### जनरल (अँ) (जैसे: डाकघर)

केंद्रीय सत्ता विषयक 899 23

### जनरल इन्श्योरेंस (अँ)

आम बीमा 631 18

### जनरल नीलिज (अँ)

व्यावहारिक ज्ञान 305.11

### जनरल बोडी (अँ)

महासमिति 692 24

साधारण सभा 692 28

### जनरल मर्चेंट

जनरल मर्चेंट 662.8 ⇨

### जनरल मर्चेंट (अँ)

जनरल मर्चेंट 662 8

### जनरल मैनेजर (अँ)

महा प्रबंधक 655 10

### जनरल सैक्रेटरी (अँ)

महा सचिव 652.25

### जनरल स्टोर

जनरल स्टोर 662.7 ⇨

### जनरल स्टोर (अँ)

जनरल स्टोर 662 7

### जनरय

कचर पथर 294 10

### जनराज्यवाद

गणतंत्रवाद 884 8

### जन लोक

साल लोक सूची 258 6

### जनवरी

ईसवी मास सूची 43 4

### जनवरी 1

नव वर्ष सूची 42 19

### जनवार्ड

प्रसूति कर्म 244 4

### जनवाद

अपुष्ट समाचार 440 5

गणतंत्रवाद 884 8

### जनवादी गणतंत्र

जनवादी गणतंत्र 881 17 ⇨

### जनवाना

प्रसूति कर्म करना 244.13

### जनवास

धर्मशाला 1090 24

### जनवासा

बरात घर 802 28

### जनवासे की छाल

मद गति 1045 2

### जनवासे की छाल से चलना

मद गमन करना 1045 8

### जन वाहन

जन वाहन 1068 2 ⇨

### जन विषयक

जनता विषयक 883 9

### जन व्यवहार: भाषा

प्रचलित बोली 421 3

### जनश्रुत

प्रवादित 440 8

सर्व संज्ञात 441 21

### जनश्रुतता

पारंपरिकता 795 2

### जनश्रुति

अपुष्ट समाचार 440 5

जनश्रुति 424 13 ⇨

लोक कथा 450 7

### जन संकुल

जनाकीर्ण 616 29

### जनसंख्या

जनसंख्या 616.8 ⇨

### जन संग्राम

आंदोलन 902.8

### जन संपत्ति

जन बल संपत्ति 624 13

जन संपर्क अधिकारी  
प्रचार कर्मी 442 2  
जन संपर्क यात्रा  
पदयात्रा 1087 8  
जन संहार  
मारकाट 905 25  
जन सभा  
जन सभा 694 2 ⇨  
जन समुदाय  
जनता 883 5  
जनसंख्या 616 8  
समाज 688.1  
जन समूह  
समाज 688 1  
जन साधारण  
जनता 883 5  
धार्मिक जन साधारण 743 1  
साधारण जन 728 12  
जन सूचना  
मुनादी 441 11  
जन सेवक  
लोकोपकारी 832 14  
जन सेवक [जन सेविका]  
समाज सेवी 832 15  
जन सेवक बुद्ध  
बोधिसत्त्व 793.15  
जनसेवा  
लोकोपकार 832 5  
समाज सेवा 832 6  
जनहित  
लोकोपकार 832 5  
जनहितार्थ  
लोकार्थ 832 13  
जनहीन  
निर्जन 617 16  
जनहु  
सादृश्य उक्ति सूची 309 26  
जनांत  
एकांत स्थान 697 4  
निर्जन स्थान 617 7  
यमराज 256 1  
जनांतिक बचन  
जनांतिक बचन 465 3 ⇨  
जनांतिक वार्तालाप  
कानाफूसी 435 4  
जनांदोलन  
आंदोलन 902 8  
जनाकीर्ण  
जनाकीर्ण 616.29 ⇨  
जनाकीर्णता  
जनाकीर्णता 616.11 ⇨  
जनाचार  
मर्यादा 808.5  
जनाज्ञा  
जनाज्ञा 254.6 ⇨  
शव यात्रा 253 2  
जनाज्ञा उठना  
मरना 249 18

शव यात्रा निकलना 253 30  
जनाज्ञा बरबार  
शव यात्री 253 38  
जनादेश  
जन प्रतिनिधित्व 888.24  
जनाधिनाथ  
राजा 882 6  
जनानखाना  
जनानखाना 614.20 ⇨  
जनाना  
अंतपुर वासिनी 591 11  
जनानखाना 614 20  
जनाना  
ज्ञान कराना 305 24  
जनाना  
पत्नी 803 6  
जनाना  
संज्ञापित करना 441 13  
जनाना  
स्त्री 236 3  
स्त्रीत्वपूर्ण 236 24  
स्त्रीय 236 23  
हिजड़ा 238 5  
जनाना [जनानी]  
स्त्रेण 236 25  
जनाना जूता  
जनाना जूता 588 15 ⇨  
जनाना डीला पाजामा  
जनाना डीला पाजामा 586 8 ⇨  
जनानी  
मादा 236 22  
जनानी  
स्त्री 236 3  
जनाने कपड़े  
स्त्री परिधान 583 10  
जनापवाद  
कुख्याति 848 1  
निंदा 843 1  
प्रवाद 440 6  
जनाब  
पुरुष उपाधि सूची 856 2  
जनार्थ  
लोकार्थ 832 13  
जनार्दन  
ईश्वर 764 1  
विष्णु 768.1  
शिव 767 1  
हयग्रीव अवतार 769 13  
जनाबर  
पशु 127 1  
जनाबर्त  
दक्षिण एशिया 27 2  
जनाब्रम  
धर्मशाला 1090.24  
जनाब्रम  
धर्मशाला 1090.24  
शामियाना 800.17

जनि  
नहीं 338.51  
जनिका (म)  
जनन कोशिका 130.5  
जनित  
कारणभूत 507.6  
जनिद  
जनिद 132.11 ⇨  
जनिद (म)  
जनिद 132.11  
जनिष्णु  
उत्पादक 546 13  
जनयिता 243 10  
नर 236 21  
जनी  
पत्नी 803 6  
पुत्र वधू 724 24  
पुत्री 718.10  
मादा 236 22  
माया 762.9  
वधू 801 11  
जनीय  
जनता विषयक 883.9  
जनूब  
दक्षिण 29 10  
जनूबी  
दक्षिणी 29 31  
जनेऊ  
उपनयन संस्कार 798 20  
यज्ञोपवीत 798 22  
जनेऊधारी  
? ज्ञोपवीत धारी 798 46  
जनेत  
बराती 801 7  
वरयात्रा 800 43  
जनेथा  
जनेथा 147 4 ⇨  
जनेश  
विष्णु 768 1  
जनेश्वर  
राजा 882 6  
विष्णु 768.1  
जनेष्ट  
लोकप्रिय 649 22  
जनेत  
बराती 801 7  
जनोपयोगी  
जनोपयोगी 524 19 ⇨  
जनी  
सादृश्य उक्ति सूची 309 26  
जनीघ  
अव्यवस्थित समूह 690 4  
जन्मत  
विहित 259.2  
स्वर्ग 259.1  
जन्मत की विधि  
हिजड़ा 238.5

जन्मत की परी  
दूर 782 7  
जन्मत अवन  
बागो अवन 259 3  
जन्म  
आयु 229.1  
जन्म 248.1 ⇨  
जन्म (वे.)  
अस्तित्व धारण 246 2  
जीवन 246.6  
जन्म उत्सव  
जातक संस्कार 798.9  
जन्म कथा  
मौलूद शरीफ 739.7  
जन्म काल  
जन्म काल 248 3 ⇨  
जन्म कुंडली  
जन्म कुंडली 261.7 ⇨  
जन्म कुंडली विद्या  
फलित ज्योतिष 261 1  
जन्म कुंडली: स्थान  
जन्म कुंडली स्थान 261.8 ⇨  
जन्म गण  
जन्म गण 261.9 ⇨  
जन्म गण सूची  
जन्म गण सूची 261.10 ⇨  
जन्मगत  
स्वाभाविक 836 11  
जन्मगतता  
आनुवंशिकता 727 17  
जन्म गीत  
जन्म गीत 796 18 ⇨  
जन्म ग्रहण  
जन्म 248 1  
जन्म चक्र  
आयागमन चक्र 246.3  
जन्मजात  
आनुवंशिक 727 39  
स्वाभाविक 836 11  
जन्मजात केश  
जन्मजात केश 137.2 ⇨  
जन्मजात गुण  
प्रतिभा 301.8  
जन्मजात ज्ञान  
जन्मजात ज्ञान 305 9 ⇨  
जन्मजातता  
आनुवंशिकता 727 17  
स्वाभाविकता 836 5  
जन्मजात देवता  
आज्ञान देवता 772 15  
जन्मजात स्वभाव  
स्वभाव 836 4  
जन्मतः  
अनुवंशतः 727.44  
जन्मतः कृतना कृत  
जन्मतः कृतना कृत 798.48 ⇨  
जन्म तिथि  
जन्म दिवस 58.2

## जन्म दाता

जन्म दाता	जन्म लग्न 261 11	जप 749.2 ⇨	जब भी
जनयिता 243 10	जन्म लग्न	जप कर्ता	जब जब 36 27
जन्मदाता	जन्म काल 248 3	जप कर्ता 749.3 ⇨	जभी 36 28
पिता 717 4	जन्म लग्न 261.11 ⇨	जपजी	जबरजद
पिता माता 717 1	जन्म लेना	जपुजी 740 8	पुखराज 96 14
जन्मदात्री	अवतार लेना 769 40	जपतप	जबरदस्त
जनयित्री 243 11	जन्म लेना 248 8 ⇨	जपतप 749 1 ⇨	अत्याधिक 944 7
माता 717 7	जन्मवर्त्म	धर्म कर्म 747 1	जयी 912 15
जन्मदान	स्त्री जननेद्रिय 152 12	जपना	प्रबल 487 24
प्रसव 244 1	जन्म विवाह आदि मंगल उत्सव	जपना 749 39 ⇨	बलिष्ठ 160 10
जन्म दिन	मगलोत्सव 796 1	जपनी	जबरदस्ती
जन्म दिवस 58 2	जन्म संधाती	जपमाला 749 7	अत्याचार 835 3
वय गणना उपमान सूची 229 12	दपती 803 4	जपमाला. धैली 673 14	अधिकारहीनत 898 4
जन्म दिवस	जन्म संस्कार	जपमाला	बलात्कार 237 11
जन्म दिवस 58 2 ⇨	जातक संस्कार 798 9	जपमाला 749 7 ⇨	विवशत 901 13
जन्म देना	जन्मसिद्ध	जपमाला: धैली	हेकड़ी 734 10
जनन करना 243 8	स्वाभाविक 836 11	जपमाला: धैली 673.14 ⇨	जबरदस्ती देना
प्रसव करना 244 11	जन्म से	जपमाला: फुंदना	बलात देना 638.10
रक्षित करना 527.9	अनुवशत 727 44	जपमाला: फुंदना 749.9 ⇨	जबरदस्ती लेना
जन्म नक्षत्र	जन्मस्थली	जपमाला: बड़ा दाना	छीनना 635.13
जन्म काल 248.3	जन्मभूमि 34 13	जपमाला: बड़ा दाना 749.8 ⇨	जबरन
जन्म न लेना	जन्म स्थान	जप 749 2	बलपूर्वक 487 31
जन्म न लेना 247.5 ⇨	जन्मभूमि 34.13	जप कुसुम	जबरन
जन्मना	जन्म स्थान 248.2 ⇨	जवा कुसुम 14 17	विवशत: 901 13
जन्म लेना 248.8	जन्मांतर	जपिया	जबरन छुट्टी
जन्म नाम	अन्य जन्म 248.4	जप कर्ता 749 3	खानाबंदी 902 17
नामकरण: नाम 315.10	जन्मांतरयाव	जप कर्ता 749.3	जबरवस्त
जन्म निरोध	पुनर्जन्मवाद 760 18	जपनी	हेकड़ीबाज 734.23
गर्भ निरोध 240.4	जन्मांध	जप कर्ता 749.3	जबरवस्ती
जन्म पत्रिका	धृतराष्ट्र 771 65	जपुजी	अधिकारहीनत 898 4
जन्म कुंडली 261 7	जन्मा [जन्मी]	जपुजी 740.8 ⇨	कठिनत: 519.31
जन्म पत्री	जन्मा [जन्मी] 248 10 ⇨	जफ़र	बलपूर्वक 487 31
जन्म कुंडली 261 7	जन्मागत	जय 912 1	जबरवस्ती का काम
जन्मपत्री मिलना	स्वाभाविक 836 11	परोक्ष ज्ञान: शक्ति 305 7	अस्वेच्छित कर्म 650 8
जन्मपत्री मिलना 799.51 ⇨	जन्मागतता	जफ़ाकारी	जबल
जन्म पत्री मिलना 799 51	आनुवंशिकता 727 17	अत्याचार सहन 835.4	पर्वत 16 3
जन्म पत्री मिलान	जन्मादि	जफ़ाकार	जबहुँ
जन्म पत्री विचार 799 33	विष्णु 768 1	अत्याचारी 835.13	जभी 36.28
जन्म पत्री विचार	जन्माधिप	जफ़ाका	जबाका
जन्म पत्री विचार 799.33 ⇨	लग्नाधिपति 261.19	आतिगन 237.8	जबड़ा 140 17
जन्म पादप	जन्माष्टमी	दबोच 868.6	जबान
वंशावली 727.13	जन्माष्टमी 57.7 ⇨	जब	जिह्वा 143.7
जन्मभूमि	जन्मेजय	जब 36.26 ⇨	भाषा 421.1
जन्मभूमि 34.13 ⇨	जनमेजय 771 55	यदि 507.12	वचन 339.15
स्वदेश 34 12	जन्मेश	जब कि	वाधा 299.1
जन्मभूमि (दे.)	लग्नाधिपति 261 19	यदि 507 12	जबान काट लेना
जन्म स्थान 248 2	शिव 767 1	यद्यपि 507 14	वाधा रोधन करना 429.18
जन्म मरण	जन्मोत्सव	जब जब	जबान च्लमना
जन्म मरण 246.5	जन्म दिवस 58.2	जब जब 36.27 ⇨	मुँहजोरी करना 708.12
जन्म मरण चक्र	जातक संस्कार 798 9	जबका	जबानवराज
आवागमन चक्र 246 3	जन्म	जबड़ा 140 17 ⇨	अपभाषी 433.8
जन्ममरणशील	अर्थ द्योतक 427 23	जब सब	धृष्टभाषी 432.14
आवागमन ग्रस्त 246 12	कारणभूत 507 6	कभी कभी 36 25	मुँहजोर 708 15
जन्म मृत्यु	जनता विषयक 883.9	जब...सब	मुँहलगा [मुँहलगी] 428.23
जन्म मृत्यु 246 5 ⇨	जाति 730 1	कारण कार्य: उक्ति सूची 507.20	वाद्याल 428.22
जन्म राशि	मानवीय 128 11	जब...सौ	जबानवराजी
जन्म काल 248.3	जप	कारण कार्य: उक्ति सूची 507.20	धृष्ट भाषण 432.6
	ग्रहशांति 261 27		मुँहजोरी 708.8

वाचालता 428 5  
**जबानदान**  
भाषा ज्ञाता 421 30  
**जबानबंद**  
निरुत्तर 335 10  
वाचारुद्ध 429 27  
**जबानबंदी**  
याक प्रतिबध 429 9  
वाचा रोधन 429 7  
**जबान लकाना**  
मुंहजोरी करना 708 12  
**जबानी**  
मौखिक 412 43  
**जबानी याद**  
रटा [रटी] 356 23  
**जबीर**  
स्प्लिट 174 10  
**जबूर**  
इसलामी धर्मग्रंथ 739 1  
**जब्त**  
आधिपत्य 899 8  
**जब्त** 635 22 ⇨  
धैर्य 394 6  
नियंत्रण 899 10  
प्रहार सहन शक्ति 920 2  
संयम 808 8  
सहन 872 5  
**जब्त करना**  
**जब्त करना** 635 12 ⇨  
**जब्तशुदा**  
जब्त 635 22  
**जब्तो**  
**जब्तो** 635 6 ⇨  
**जब्तो करना**  
जब्त करना 635 12  
**जब्त**  
अत्याचार 835 3  
वश 899 13  
**जब्तन**  
अधिकारहीनत 898 4  
**जब्तिया**  
अधिकारहीनत 898 4  
**जभी**  
जभी 36 28 ⇨  
**जभ कर**  
धैर्यपूर्वक 394 19  
**जभकालर**  
भेंवर 1040 24  
**जभघट**  
अव्यवस्थित समूह 690 4  
समागमन 694.17  
**जभघटा**  
अव्यवस्थित समूह 690.4  
**जभज**  
यमज 723 26  
**जभजम**  
क्राबा कूप 19 6

**जभजमा**  
राग 457 13  
**जभदनि**  
ऋषि मुनि सूची '99 17  
परशुराम पिता 769 29  
शिव 767 1  
**जभना**  
अभ्यरत होना 303 12  
आवासित करना 618 17  
गति स्तभन होना 1047 17  
**जभना** 81 11 ⇨  
धरा जाना 1019 9  
पपडियाना 990 29  
प्रतिरोध करना 915 4  
प्रभाव होना 511 7  
मद प्रभाव होना 211 9  
मूल बनना 117 13  
यमुना 20 18  
युक्ति लगना 517 8  
रसोत्पादन होना 468 33  
सामजस्य होना 702 4  
स्कदित होना 81 10  
**जभनीला**  
गारटी शुल्क 339 14  
**जभराज**  
यमराज 256 1  
**जभशोधः घ्याला**  
जामे जहाँबी 262 8  
**जभा**  
जभा प्रविष्टि 632 7  
जभा राशि 631 14  
जोड़ फल 954 3  
संग्रहित 669 19  
समूह 690 1  
**जभा [जमी]**  
आधारित 1019 17  
आमूलित 117 21  
आसीन 1028 10  
गति स्तभित 1047 25  
**जभा [जमी] 81 18 ⇨**  
दृढ़ आधारित 1019 21  
प्रगाढ़ 81 14  
बचाया [बचाई] 645 7  
सधित 645 9  
सघन 81 15  
समागत 694 31  
स्कदित 81 17  
हिमित 105 23  
**जभा [जमी] (दही)**  
**जभा [जमी] (दही)** 554.25 ⇨  
**जभाअत**  
सस्था 692 1  
**जभाअसी**  
सामूहिक 690 13  
**जभाई**  
आधारण 1019 5  
**जभाई** 81 6 ⇨  
दामाद 724.22

दृढ़ आधारण 1019 7  
हिमन 105 3  
**जभा करना**  
जमाखोरी करना 865 21  
जोड़ करना 954 11  
संग्रह करना 669 18  
सघय करना 645 5  
**जभा कर्ता**  
**जभा कर्ता** 631 15 ⇨  
**जभाखर्च**  
बैलेस शीट 632 2  
**जभाखर्च बही**  
**जभाखर्च बही** 632 15 ⇨  
**जभा खाता**  
**जभा खाता** 631.5 ⇨  
**जभाखोर**  
**जभाखोर** 865.15 ⇨  
**जभाखोरी**  
**जभाखोरी** 865 14 ⇨  
**जभाखोरी करना**  
**जभाखोरी करना** 865.21 ⇨  
**जभा दुकड़ा**  
थक्का 938 24  
**जभात**  
कक्षा 691 3  
कोटि 936 1  
दल 691 1  
नमाजी पक्ति 751 13  
समूह 690 1  
साधु मडली 691.6  
**जभाती**  
कोटीय 936 7  
सं-धानीय 692 31  
**जभादार**  
पुलिस कर्मी 866 3  
शीघालय कर्मी 216.24  
प्रभिक अध्यक्ष 652 21  
**जभादारी**  
शीघालय कर्म 216 23  
**जभाही**  
हिजरी मास सूची 43 5  
**जभादी 2**  
हिजरी मास सूची 43 5  
**जभाानत**  
गारटी 339 13  
गारटी शुल्क 339.14  
**जभाानत** 869.2 ⇨  
बंधक दायित्व 633 20  
**जभाानत दाता**  
जभाानतदार 869 8  
**जभाानतदार**  
**जभाानतदार** 869.8 ⇨  
**जभाानत देना**  
**जभाानत देना** 869.5 ⇨  
**जभाानत पर छुड़वाना**  
जभाानत देना 869 5  
**जभाानत पर छूटा**  
जभाानती 869 7

**जभाानती**  
**जभाानती** 869 7 ⇨  
**जभााना**  
अभ्यास करना 303 11  
**जभााना**  
उन्नति काल 534 2  
**जभााना**  
कलम लगाना 548 37  
घिनना 599 37  
**जभााना** 81.12 ⇨  
तमाचा लगाना 918.27  
दही जभााना 554.20  
**जभााना**  
दीर्घ काल 37 5  
**जभााना**  
दृढ़ आधारित करना 1019.12  
धरना 10:9.10  
**जभााना**  
नवयीयन 231 1  
**जभााना**  
प्रहार करना 918 21  
**जभााना**  
युग 40 1  
वर्तमान काल 36 13  
शासन काल 890 9  
**जभााना**  
संस्तरित करना 990 28  
सघन करना 81.9  
हिमकृत करना 105 17  
**जभाानासाज़**  
अवसरवादी 827 18  
कुटिल 818 7  
दौवबाज़ 819 19  
**जभाानासाज़ी**  
अवसरवादिता 827.3  
कुटिलता 818 3  
**जभााने के साथ चलना**  
फैशन करना 222.16  
**जभाापन**  
स्कंदित अवस्था 79 6  
**जभा पानी**  
हिम 90 1  
**जभा पूंजी**  
**जभा पूंजी** 628.8 ⇨  
**जभा प्रविष्टि**  
**जभा प्रविष्टि** 632 7 ⇨  
**जभाबंदी**  
कृषि भूमि व्यवस्था 553 1  
पटवारी. बही 553 12  
भंडारण 670 1  
**जभा यंत्र**  
अबाकस 950.14  
**जभाया [जभाई]**  
हिमित 105.23  
**जभाया जल**  
बरफ़ 90 2  
**जभाया तेल**  
वनस्पति घी 196.8

## जमा राशि

### जमा राशि

जमा राशि 831.14 ⇨

### जमालगोटा

जमालगोटा 216.9 ⇨

### जमाबी

सुंदर 157.7

### जमाब

अव्यवस्थित समूह 890.4

आमूलन 117.5

एकत्रण 867.1

टेर 886.8

समागमन 894.17

सामंजस्य स्थापना 702.2

### जमाबट

जमाई 81.6

### जमाबका

टेर 888.8

समागमन 694.17

### जमी

थलीय धरातल 25.3

### जमीकंद

जमीकंद 189.21 ⇨

साग सक्की सूची 189.4

### जमीदार

कृषक 548.2

### जमीदार

जमीदार 553.14 ⇨

### जमीदार

जमीदार 553.14

बड़ा जमीदार 553.15

### जमीदारी

कृषि 548.1

जमीदारी 553.13 ⇨

भू संपत्ति सूची 824.12

### जमी

यमी 774.75

### जमी टोपी

घपीटी 584.9

### जमीन

आवासीय भूखंड 598.3

इहलोक 258.11

कथा प्रस्तावना 466.13

कृषि भूमि 552.1

क्षेत्र 34.1

खेत 551.1

जागीर 553.16

थलीय धरातल 25.3

देश 34.10

निम्नता. उपमान सूची 983.7

पृथ्वी 9.1

फरसी विद्यावन 593.36

विद्यावन 593.35

भूमिका 447.8

भूसंपत्ति 824.11

संपूर्ण धरातल 25.1

### जमीन आसमान

धरती आकाश 2.2

विपरीतता: उपमान सूची 310.13

### जमीन आसमान एक करना

अति परिभ्रम करना 493.7

### जमीन आसमान का अंतर होना

विपरीत होना 310.5

### जमीन जायदाद

अघल संपत्ति 624.8

भूसंपत्ति 624.11

### जमीन जायदादी

भूसंपत्तीय 624.19

### जमीनबारी

जमींदारी 553.13

### जमीनबोली

घरण चुंबन 1060.3

### जमीन सूचना

धराशाही होना 1027.12

### जमीनी

थलीय 25.30

पृथ्वीय 9.21

### जमीर

मन 351.2

### जमीर फ़रामोश

निष्ठा विक्रेता 827.17

### जमीर फ़रामोशी

निष्ठा विक्रय 827.2

### जमीला

सुंदर स्त्री 157.2

### जमुन

यमुना 20.18

### जमुना

यमुना 20.18

### जमुनियौ

बैगनी 289.56

### जमुरद

पत्रा 96.13

### जमे रहना

दीर्घ काल तक रहना 37.6

### जमोग

घक्रवृद्धि व्याज 633.11

### जमोगना

लेखा परीक्षा करना 632.38

सपुष्ट करना 337.13

### जम्मु

जम्मु 28.32 ⇨

### जम्मु और करमीर

जम्मु और करमीर 28.29 ⇨

### जम्मु और करमीर: राजधानी

जम्मु और करमीर राजधानी 28.30 ⇨

### जम्माई

जैभाई 266.10

### जयंत

अर्जुन 771.36

चंद्रमा 8.2

जयत 773.29 ⇨

जयी 912.15

विष्णु 768.1

शिव 767.1

### जयंत (अज्ञातवास: नाम)

भीम 771.76

### जयंत: पिता

इंद्र 773.5

### जयंती

उत्सव 56.1

जन्म दिवस 58.2

जयंती 774.37 ⇨

जयंती 58.1 ⇨

जौ अंकुर 113.2

दुर्गा 776.7

देवसेना 774.47

ध्वजा 408.4

पार्वती 776.9

वार्षिक भोज 183.8

### जयंती शो

जुबिली शो 468.8

### जय

जयंत 773.29

जय 912.1 ⇨

विष्णु 768.1

### जय (अज्ञातवास: नाम)

युधिष्ठिर 771.80

### जय (पूर्व जन्म) (विष्णु: द्वारपाल)

हिरण्य कशिपु 769.25

### जय (वेद व्यास)

महाभारत 771.22

### जय उद्धार

जयकार 912.3

### जय करना

जीतना 912.12

### जय कर्ता

जयी 912.15

### जयकार

जयकार 912.3 ⇨

### जय कृत

पराजित 913.5

### जय गंगा

शुभ आरंभ उक्ति सूची 521.9

### जय गाथा

विजय गाथा 841.8

### जय गीत

विजय गाथा 841.8

### जयघंट

मंदिर बड़ा घटा 461.29

### जयघोष

जयकार 912.3

### जयजयकार

जयकार 912.3

साधुवाद 841.20

### जयजयकृत

अभिनंदित 854.21

### जयजयवंती

राग रागिनी सूची 457.24

### जयत्सेन (अज्ञातवास: नाम)

नकुल 771.68

### जयद [जयदा]

जयप्रद 912.17

### जयद्रथ

जयद्रथ 771.56 ⇨

### जयद्वल (अज्ञातवास: नाम)

सहदेव 771.96

### जयनी

जयंती 774.37

देवसेना 774.47

### जयपत्र

जयपत्र 906.7 ⇨

डिक्री 877.17

### जयपत्री

जायित्री 281.17

### जय पराजय

उन्नति अवनति 532.3

जय पराजय 912.7 ⇨

### जय पराजय न होना

जय पराजय न होना 912.14 ⇨

### जयपराजयहीन

जयपराजयहीन 912.21 ⇨

### जयपराजयहीनता

जयपराजयहीनता 912.8 ⇨

### जय पराजय होना

जय पराजय होना 912.13 ⇨

### जयपाल

विष्णु 768.1

### जयपुर

राजस्थान राजधानी 28.65

### जयप्रद

जयप्रद 912.17 ⇨

### जयप्रद [जयप्रदा]

जयप्रद 912.17

### जय प्राप्ति

जय प्राप्ति 912.2 ⇨

### जय मंगल

जयकार 912.3

### जयमाल

वरमाला 802.20

### जयमाला

वरमाला 800.42

वरमाला 802.20

### जय मिलना

सफल होना 512.3

### जय यज्ञ

अश्वमेध 754.13

### जय या पराजय

जय या पराजय 912.22 ⇨

### जय योग्य

जेय 518.20

### जयलक्ष्मी

जय 912.1

जय श्री 774.38

### जयलेख

जयपत्र 906.7

### जय वाहिनी

विजयी सेना 932.3

शची 774.89

### जयशील

जयशील 912.16 ⇨

### जयश्री

जय 912.1



**जय श्री**  
जय श्री 774.38 ⇨  
**जयश्री**  
जय श्री 774.38  
**जय स्तंभ**  
विजय स्तंभ 255 16  
**जया**  
जवा कुसुम 14 17  
दुर्गा 776 7  
दूब घास 11 10  
ध्वजा 408 4  
नवशक्ति सूची 776 19  
भोग 210 1  
हड 281 37  
**जयित**  
पराजित 913 5  
**जयिष्णु**  
जयशील 912 16  
**जयी**  
जयशील 912 16  
जयी 912 15 ⇨  
**जर**  
धन 628 1  
धन संपत्ति 624 10  
स्वर्ण 95 4  
**जर**  
हास 531 3  
**जरई**  
जौ अकुर 113 2  
**जरकशी**  
जरकशी 577.17 ⇨  
**जरकार**  
स्वर्ण कमी 566 2  
**जरकून**  
जर्कोन 96 10  
**जरखरीद गुलाम**  
क्रीत दास 651 13  
नगण्य व्यक्ति 853 4  
**जरखेज**  
उर्वर (भूमि) 552 16  
**जरखेजी**  
भूमि उर्वरता 552.8  
**जर जमीन**  
संपत्ति 624 1  
**जरठ**  
कर्कश 838 10  
पांडुर 289 53  
**जरठता**  
वृद्धता 232.2  
**जरण कुम**  
सागीन 13.25  
**जरतारी**  
सलमा सितारा काम 577 18  
**जरतुक्ती**  
पारसी धर्मावलंबी 736:27  
**जरतुक्ती धर्म**  
पारसी धर्म 736.26

**जरत्कार**  
श्रद्धि मुनि सूची 789 17  
**जरत्कारः पत्नी**  
मनसा 774.62  
**जरत्व**  
सठियायापन 353 13  
**जरदोजी**  
जरी 569 13  
सलमा सितारा काम 577 18  
**जर निगारी**  
स्वर्ण कर्म 566 1  
**जरनिशांगरी**  
स्वर्ण पच्चीकारी 406 35  
**जरनिशानी**  
स्वर्ण पच्चीकारी 406 35  
**जरनेल**  
जनरल 935 14  
**जर परस्त**  
धन पूजक 628 25  
**जरपाश**  
दानवीर 641 28  
**जर पेशगी**  
बयाना 658 9  
**जरब**  
गुणन कर्म 955 1  
ठाप 414 11  
**जरब देना**  
गुणा करना 955.21  
**जरबपत्त**  
जरबपत्त 580 12 ⇨  
**जरबाफ**  
जरबपत्त 580 12  
**जरबाफ्री**  
सलमा सितारा काम 577 18  
**जरमनवाद**  
नात्सीवाद 884 34  
**जरर**  
अहित 712 2  
**जरररिसी**  
अहितकारी 712.15  
**जरा**  
अल्प 942 13  
**जरा**  
असुर स्त्री सूची 783 9  
जरा व्याध 771 57  
विजसा 774 87  
वृद्धता 232 2  
**जरा कुमार**  
जरासंध 771.58  
**जराप्रस्त**  
वृद्ध [वृद्धा] 232 10  
**जराप्रस्तता**  
सठियायापन 353 13  
**जरा जरा**  
अल्पत 942 23  
**जराजीर्ण**  
जर्जर 536 11  
जर्जर वृद्ध 232 12

**जरारु**  
जर्जर वृद्ध 232.12  
**जरायमपेशा**  
अपराधशील 861 15  
**जरारु**  
जरारु 152.15 ⇨  
**जरारुक्त**  
वृद्ध [वृद्धा] 232.10  
**जरारुज**  
जरारुज 243 15 ⇨  
**जरा व्याध**  
जरा व्याध 771 57 ⇨  
**जरासंध**  
जरासंध 771 58 ⇨  
**जरासंधजित**  
भीम 771 76  
**जरासंधः सहायक**  
काल यवन 771 48  
**जरासंधी कुश्ती**  
जरासंधी कुश्ती 486 13 ⇨  
**जरा सा**  
अत्यल्प 942 16  
पुट मात्र 1008 25  
सूक्ष्म 980 21  
**जरासीम (बहु)**  
रोगाणु 122 5  
**जरारुत**  
जरासंध 771 58  
**जराह**  
वण शल्यक 174 13  
**जराहत**  
श शल्य 174 12  
शल्य चिकित्सा 174 1  
**जराहीन**  
अपरिवर्तनशील 533 10  
धिरयुवा 231 13  
**जराहीनता**  
धिर यौवन 23 10  
**जरिए**  
कृत 505 33  
द्वारा प्रेषित 1054 18  
युक्तिपूर्वक 517 14  
**जरिया**  
उपाय 517 3  
**जरी**  
जरी 569 13 ⇨  
**जरी का काम**  
सलमा सितारा काम 577 18  
**जरीदा**  
रजिस्टर 415 18  
**जरीफ**  
विनोदी 385 13  
**जरीब**  
क्षेत्र मापन उपकरण 959 34  
जरीब 959 22 ⇨  
**जरीबकशा**  
क्षेत्र मापक 599 18

**जरीबकशी**  
क्षेत्र मापन 599 17  
**जरर**  
अवश्यमेव 68 21  
अवश्यमेव उक्ति सूची 68 23  
सनिश्चय हैं 337 30  
**जररत**  
आवश्यकता 524 7  
**जररत के मुताबिक**  
आवश्यकता:नुकूल 524 22  
**जररतमंद**  
अभावग्रस्त 627 17  
**जररतमदी**  
अभावग्रस्तता 627 2  
आवश्यकता अनुभूति 524 8  
**जररत होना**  
मोंग होना 656 13  
**जररियात**  
आवश्यक साधन 556 4  
**जररी**  
अवश्यभावी 68 15  
आवश्यक 524 20  
महत्त्वपूर्ण 852 8  
**जर्क बर्क**  
घमकदार 287 36  
तड़क भड़क 226 4  
तड़कभड़कदार 226 14  
**जर्किन**  
जर्किन 585 54 ⇨  
**जर्किन (अं)**  
जर्किन 585 54  
**जर्कोन**  
जर्कोन 96 10 ⇨  
**जर्कोन (अं)**  
जर्कोन 96 10  
रत्न सूची 96 5  
**जर्जरित**  
जर्जर वृद्ध 232 12  
टूटा फूटा [टूटी फूटी] 539 16  
**जर्जरीक**  
टूटा फूटा [टूटी फूटी] 539 16  
**जर्जर**  
अबलिष्ठ 159 12  
इंद्र ध्वज 773 9  
जर्जर 536 11 ⇨  
जर्जर वृद्ध 232 12  
टूटा फूटा [टूटी फूटी] 539 16  
शियिलकाय 159 15  
**जर्जर गाड़ी**  
जर्जर गाड़ी 1071.31 ⇨  
**जर्जरता**  
अबलिष्ठता 159 3  
जर्जरता 536.3 ⇨  
जर्जर वृद्धता 232.6  
**जर्जर वृद्ध**  
जर्जर वृद्ध 232 12 ⇨  
**जर्जर वृद्धता**  
जर्जर वृद्धता 232.6 ⇨

## जर्जर वृद्ध होना

### जर्जर वृद्ध होना

जर्जर वृद्ध होना 232 8 ⇨

### जर्जर होना

जर्जर होना 536 6 ⇨

### जर्ण

वृक्ष 111 18

### जर्द

पीला 289 54

### जर्दालु

खुबानी 191 6

### जर्दी

अन्न जर्दी 206 5

पीतिमा 289 16

### जर्नल (अं)

कच्ची बही 632 11

पत्रिका 445 2

### जर्नलिज़्म (अं)

पत्रकारिता 445 7

### जर्नलिस्ट (अं)

पत्रकार 445 8

### जर्नेल

जनरल 935 14

### जर्म (अं)

रोगाणु 122 5

### जर्रा

कण 938 2

त्रारणु 100 7

सूक्ष्मतम 980 22

### जर्रा जर्रा

अल्पत 942 23

### जर्रा भर

अत्यल्पत 942 24

पुट मात्र 1008 25

### जर्राह

द्रवण शल्यक 174 13

शल्य चिकित्सक 174 2

### जर्राह कर्म

द्रवण शल्य 174 12

### जर्राही

द्रवण शल्य 174 12

### जर्राही

शल्य चिकित्सा 174 1

### जर्सी

जर्सी 585 55 ⇨

### जर्सी (अं)

जपर 585 39

जर्सी 585 55

### जलंधर

असुर सूची 783 8

राक्षस सूची 784 4

### जल

अर्घ्य 750 5

कघलोहू 167 15

कर्मसाक्षी देवता सूची 772 18

जल 88 1 ⇨

जलराशि 18 1

जलराशि गहराई 984 2

जलीय धरातल 25 2

पचभूत सूची 78 9

पेय जल 88 7

वर्षा 54 5

### जल अपवहन

जल निकास 23 1

### जल अपवाह

जल निकास 23 1

### जल अवतारण

जल अवतारण 1080 9 ⇨

### जल अवप्रवाह

अधो प्रवाह 21 18

### जल आरोहण

सर्फिंग 477 16

### जल उत्तल

जल उत्तल 985 5 ⇨

### जल उद्बहन

जल उद्बहन 19 22 ⇨

### जल एकत्रण स्थान

बधाल 1073 35

### जल कंटक

घड़ियाल 123 5

सिघाड़ा 190 35

### जलकपि

सूँस 124 12

### जल करंक

नारियल 13 11

### जलकल

चौपाकल 19 16

### जल कलश

मगल कलश 796 5

### जलकाक

जलपक्षी सूची 126 7

### जल किरात

घड़ियाल 123 5

### जलकुंड

जलकुंड 679 39 ⇨

### जल कुक्कुट

मुरगायी 126 66

### जल कुक्कुटी

पनकुकरी 126 47

### जलकूप

कूप 19 3

### जलकूर्म

सूँस 124 12

### जलकेलि

जलक्रीड़ा 483 19

### जलक्रीड़ा

जलक्रीड़ा 483 19 ⇨

### जल क्यथनांक

जल क्यथनांक 103 13 ⇨

### जल क्यथनांक: 1001

सैल्लियस तालिका 103 8

### जल क्षेत्र

जल क्षेत्र 21.7 ⇨

### जलखण

जलपक्षी 126 6

### जलखर

जलबहुल भूमि 25 4

### जलखरी

जालीदार थैली 673 13

### जल खोज विद्या

कूप जल सधान 19 18

### जलगम्य

जलगम्य 1080 47 ⇨

### जलगम्यता

जलयान जलगम्यता 1080 29

### जलगर्द

बाम 125 9

### जलगायिता

जलयान जलगम्यता 1080 29

### जलगुल्म

भेंवर 1040 24

### जल ग्रहण

जल ग्रहण 88 10 ⇨

जल ग्रहण 207 9 ⇨

### जलग्रीवा

जलग्रीवा 24 10 ⇨

### जलघड़ी

जलघड़ी 50.17 ⇨

### जलघर

जल यत्रालय 19 2

### जलघक्र

टरबाइन 1078 16

### जलघर

जलघर जीव 121 6

### जलघर जीव

जलघर जीव 121 6 ⇨

जलजीव 124 1

### जलघरा: (प्र)

जलघर जीव 121 6

### जलघरी

मछली 125 1

### जल छिन्नान

स्नानाभिषेक करना 221 23

### जलजंतु

जलजीव 124 1

### जलज

कमल 14 4

घद्रमा 8 2

जलज 88.24 ⇨

मछली 125 1

समुद्री नमक 279 7

### जलजला

भूकंप 9 17

### जलजलाना

झल्लाना 373 24

### जलजात

जलज 88 24

### जलजीरा

जलजीरा 208 14 ⇨

### जलजीव

जलघर जीव 121 6

जलजीव 124.1 ⇨

### जलजीवी

मत्स्य आखेटक 252 16

### जल डमरु

सकीर्ण जल मार्ग 1063 45

### जल डमरु मध्य

सकीर्ण जल मार्ग 1063 45

### जल डमरु मध्य

जलग्रीवा 24 10

### जल तट

तट 25 8

### जल तरंग

जल तरंग 461 36 ⇨

जल तरंग 1040 3 ⇨

लहर 1040 17

### जल तरण

नौका विहार 483 21

### जल तराई

मछली 125 1

### जल तर्पण

तर्पण 253 22

### जलतल (त्याज्य)

जल उत्तल 985 5

### जलता [जलती]

अग्न्याधानित 107 13

अति उष्ण 104 20

आलोकित 285 45

### जलता तारा

उल्का 3 6

### जलता सवाल

ज्वलत समस्या 333 12

### जलती आग भड़काना

अग्नि उद्दीप्त करना 107 12

### जल चुपई

मत्स्य मास 206 24

### जलत्राण

छाता 584 29

### जलत्रास

श्वानोन्माद 354 13

### जल थल

पृथ्वी 9 1

विपरीतता उपमान सूची 310 13

संपूर्ण धरातल 25 1

### जलथलघर जीव

उभयधर जीव 121 5

### जलद

जलद 88.25 ⇨

मेघ 55 1

वर्षद 54 23

वर्षा मेघ 55 5

### जलदस्यु

समुद्री बटमार 864 36

### जलदा

नदी 20 1

### जलदाता

जलद 88.25

### जलदान

जल प्रदान 207.10

### जलदाशन

साल 13.26

**जलदीप**  
प्रकाश स्तम्भ 285 31  
**जल देना**  
तर्पण करना 253 34  
**जलः देवता**  
भव 767 28  
**जल देवता**  
वरुण 773 43  
**जलद्रोणी**  
शिवलिंग अरघा 746 15  
**जलद्वार**  
जलग्रीवा 24 10  
**जलधर**  
मेघ 55 1  
वर्षा मेघ 55 5  
**जलधरी**  
शिवलिंग अरघा 746 15  
**जलधार**  
प्रवाहशील जल 21 11  
**जलधारा**  
जलधारा 21 15 ⇨  
प्रवाहशील जल 21 11  
**जलधिज**  
वद्रमा 8 2  
**जलन**  
ईर्ष्या 709 1  
उष्णता 104 1  
ग्रीष्म अनुभूति 53 7  
घरपरापन 278 1  
धिरमिराहट 104 2  
झुलस 167 7  
दहन 108 1  
पिताधिक्य 163 28  
मनोव्यथा 391 7  
शोध 166 8  
**जल नकुल**  
ऊद बिलाय 124 5  
**जलनखोर**  
ईर्ष्यालु 709 6  
**जलन मिटाना**  
प्रतिशोध लेना 873 8  
**जलना**  
ईर्ष्या होना 709 3  
उष्ण लगना 104 15  
दग्ध होना 108 9  
मनोव्यथा होना 391 19  
**जलना भुनाना**  
अति क्रुद्ध होना 373 16  
**जल नाली**  
नाला नाली 23 6  
**जल निकास**  
जल निकास 23.1 ⇨  
**जल नितल**  
जल नितल 985.10 ⇨  
**जलनिधि**  
घार. उपमान सूची 948 24  
**जल निमग्नशील तट**  
निम्न तट 25.23

**जल निर्गम**  
जल निकास 23 1  
**जलने लगना**  
दग्ध होना 108 9  
**जलपक्षी**  
जलपक्षी 126 6 ⇨  
**जलपक्षी सूची**  
जलपक्षी सूची 126 7 ⇨  
**जलपति**  
समुद्र 24 1  
**जलपथ**  
जल मार्ग 1066 5  
**जल पद्धति**  
नाला नाली 23 6  
**जलपना**  
डींग मारना 842 9  
बकवास करना 428 14  
**जल परी**  
जल परी 782 6 ⇨  
परी सूची 782 5  
**जलपात्र**  
पान पात्र 684 1  
**जलपान**  
उपाहार 200 1  
जल ग्रहण 88 10  
**जल पान**  
जल ग्रहण 207 9  
**जलपान अवकाश**  
जलपान अवकाश 194 6 ⇨  
**जलपान गृह**  
उपाहार गृह 194 2  
**जलपान गोष्ठी**  
जलपान गोष्ठी 183 6 ⇨  
**जलपूर्ण**  
वर्षद 54 23  
**जलपोत**  
समुद्र पोत 1072 40  
**जल प्रणाली**  
चौड़ी जलग्रीवा 24 11  
नहर प्रणाली 23 5  
**जल प्रदान**  
अर्घदान 1059 16  
जल प्रदान 207 10 ⇨  
**जल प्रदायिनी**  
शाकभरी 774 90  
**जल प्रदेश**  
जलीय धरातल 25 2  
**जलप्रपा**  
प्याऊ 207 11  
**जल प्रपात**  
निर्झर 21 8  
**जल प्रलय**  
जल प्रलय 530 2 ⇨  
**जल प्रवाह**  
अधो प्रवाह 21 18  
जल प्रवाह 21.9 ⇨  
**जल प्रवाह न होना**  
जल प्रवाह न होना 21 31 ⇨

**जल प्रवाह माप**  
जल प्रवाह माप 958 31 ⇨  
**जल प्रवाह होना**  
जल प्रवाह होना 21 30 ⇨  
**जल प्रवाहित करना**  
जल प्रवाह होना 21 30  
**जल प्रांगण**  
भूभागीय समुद्र 24 3  
**जलप्रांत**  
जलबहुल भूमि 25 4  
**जलप्लाव**  
बाढ़ 22 1  
**जल बयार**  
समुद्र समीर 85 18  
**जलबहुल**  
जलस्रोतयुक्त 21 34  
**जलबहुल भूमि**  
जलबहुल भूमि 25 4 ⇨  
**जल भरण**  
जल उद्दहन 19 22  
**जलभूमि**  
जलाशय 18 2  
**जलभृग**  
कीट सूची 122 12  
**जलभ्रम**  
मृग दर्शन 342 6  
**जलमग्न**  
बाढ़ग्रस्त 22 6  
**जलमय**  
जलयुक्त 88 23  
वर्षद 54 23  
**जल मल**  
फेन 88 15  
**जल महल**  
यात्री पोत 1072 41  
**जल मानुष**  
जल परी 782 6  
**जल मार्ग**  
जल मार्ग 1066 5 ⇨  
जल मार्ग द्वारा प्रेषित  
जल मार्ग द्वारा प्रेषित 1054.21 ⇨  
**जल मार्जार**  
ऊद बिलाय 124 5  
**जलमुक्त धरातल**  
थलीय धरातल 25 3  
**जल मूषक**  
बीवर ऊद बिलाय 124 6  
**जल में उतारना**  
जलावतारण करना 1080 37  
**जलमोद**  
गोंडर घास मूल 112 15  
**जल यंत्र**  
घोंपाकल 19 16  
फुहारा 1032 10  
**जल यंत्रालय**  
जल यंत्रालय 19.2 ⇨  
**जलयष्टि**  
मुलेठी 281 27

**जल यात्रा**  
जल यात्रा 1087 15 ⇨  
**जल यात्री**  
जल यात्री 1087.16 ⇨  
**जलयान**  
जलयान 1072 1 ⇨  
**जलयान उपकरण**  
जलयान उपकरण 1073 1 ⇨  
**जलयान गति माप**  
जलयान गति माप 958.32 ⇨  
**जलयानः जलगम्यता**  
जलयान जलगम्यता 1080.29 ⇨  
**जलयानः पैदा**  
जलयान पैदा 1073.32 ⇨  
**जलयानः पेटा**  
जलयान पेटा 1073.33 ⇨  
**जलयान प्रस्थान करना**  
जलयान प्रस्थान करना 1082.27 ⇨  
**जलयान भाग**  
जलयान भाग 1073.20 ⇨  
**जलयानः रस्सी**  
जलयान रस्सी 1073.16 ⇨  
**जलयुक्त**  
जलयुक्त 88 23 ⇨  
**जल युद्ध**  
जल युद्ध 905.11 ⇨  
**जलरंक**  
बगला 126 54  
**जलरंकु**  
मुरगाबी 126 66  
**जलरंग**  
वाटर कलर 290 7  
**जलरंड**  
भेंवर 1040 24  
**जलरस**  
नमक 279 5  
सौंभर नमक 279 8  
**जल राक्षसी**  
सिंहिका 783 24  
**जलराशि**  
जलराशि 18 1 ⇨  
**जलराशिः गहराई**  
जलराशि गहराई 984.2 ⇨  
**जलराशिः नाव्यता**  
जलराशि नाव्यता 1080.28 ⇨  
**जलराशि पैदल पारः स्थल**  
गाध स्थल 984 6  
**जलराशीय**  
जलाशयी 18.17  
**जलरुद्ध**  
जलरुद्ध 89 12 ⇨  
**जलरुह**  
कमल 14 4  
**जल रोधन**  
जल रोधन 89 5 ⇨  
जल रोधन 920.7 ⇨  
**जल लता**  
लहर 1040 17

## जल वर्षा

### जल वर्षा

वर्षा 54 5

### जलवायु

जलवायु 51 1 ⇨

### जलवायु विभाग

जलवायु विभाग 51 7 ⇨

### जल वारण

जल रोधन 920 7

### जलवाह

पनहार 19 25

मेघ 55 1

### जल वाहक

पनहार 19 25

### जल वाहक गाड़ी

तरल भार यान 1071 4

### जलवाहा [जलवाहिनी]

पनहार 19 25

### जल विद्याल

ऊद बिलाय 124 5

### जल विभाजक

जल विभाजक 16 7 ⇨

### जल विपुव

शरद विपुव 5 23

### जल विसर्पी

जल विसर्पी नौका 1072 4

### जल विसर्पी नौका

जल विसर्पी नौका 1072 4 ⇨

### जल विहार

नौका विहार 483 21

### जल वृश्चिक

झींगा 124 17

### जल व्यवस्था

जल व्यवस्था 19 1 ⇨

### जलव्याल

बाम 125 9

### जल शर्करा

ओला 54 15

### जल शाखा

जलधारा 21 15

### जलशायी

नारायण (नर) 764 19

### जलशुक्ति

घोघा 124 16

### जल संक्षोभ

समुद्री तूफान 85 9

### जल संधान

कूप जल संधान 19 18

### जलसंधि

जलग्रीवा 24 10

### जल संभर

जल विभाजक 16 7

### जल संभरण

जल व्यवस्था 19 1

### जल संयोजक

जलग्रीवा 24 10

### जलसर्प

बाम 125 9

### जलसह

जलरुद्ध 89 12

### जलसा

अधियेशन 694 14

गोष्ठी 694 4

जन सभा 694 2

नमाज जलसा 751 14

सभा 694 1

### जल सागर

सप्त सागर सूची 24 22

### जलसागाह

सभा स्थल 695 11

### जलसा जुलूस

समारोह 694 15

### जलसिक्त

आर्द्र 88 27

### जलसुत

मोती 97 2

### जलसूचि

जोक 122 8

सूंस 124 12

### जल सेना

नौ सेना 932 13

### जल सेनापति

नौ सेनापति 935 3

### जलस्रोता

उत्स्रोत 21 1

### जलस्तर

जल उत्तल 985 5

### जल स्थल

सपूर्ण धरातल 25 1

### जलस्रोत

उत्स्रोत 21 1

### जलस्रोत धारा

उत्स्रोत धारा 21 5

### जलस्रोतयुक्त

जलस्रोतयुक्त 21.34 ⇨

### जलस्थिनी

नदी 20 1

### जलहर

जलाशय 18.2

### जलहरी

शिवलिंग अरघा 746 15

### जलहार

पनहार 19.25

### जलहारी [जलहारिन]

पनहार 19.25

### जलहास

फेन 88 15

समदर झग 87 18

### जल: हिमांक

जल हिमांक 103 16

### जल हिमांक

जल हिमांक 103 16 ⇨

### जल हिमांक: 0

सैल्लियरा तालिका 103 8

### जल हिमांक: 0321

फेरनहाइट तालिका 103 6

### जलहीन

जलहीन 89 11 ⇨

वर्षाहीन 54 20

शुष्क 89 9

### जलहीन कूप

जलहीन कूप 19 5 ⇨

### जलहीनता

जलहीनता 89 4 ⇨

वर्षाहीनता 54 2

### जलांजलि

तर्पण 253 22

### जलांतराल

घोड़ी जलग्रीवा 24 11

### जलांदोलन

लहर 1040 17

### जलांबिका

कूप 19.3

### जला

बर्न 167 8

### जला [जली]

जला [जली] 197 37 ⇨

### जला दग्ध

दग्ध 108 13

### जलाई

दहन 108 1

### जलाऊ

दग्धक 108 15

### जलाकर

समुद्र 24 1

### जलाका

जोक 122 8

### जलाक्रांत

बाढ़ग्रस्त 22 6

### जलाखु

ऊद बिलाय 124 5

### जलागार

समुद्र 24 1

### जलाजल

अति आर्द्र 88 28

गोटा झालर 571 40

### बाढ़ग्रस्त 22 6

### जलातंक

श्वानोन्माद 354 13

### जलात्यय

शरद काल 53 4

### जलाधिप

वरुण 773 43

### जलाना

आग जलाना 107 10

उत्पीडित करना 391 20

दीप जलाना 285.40

धातु दहन करना 108 11

### जलाने वाला

दग्धक 108.15

### जलाभिषेक

स्नानाभिषेक 221 13

### जला भुना [जली भुनी]

अति क्रुद्ध 373 30

### जलायुका

जोक 122 8

### जलाई

आर्द्र 88 27

### जलाल

अग दीप्ति 157 6

गौरव 849 4

प्रताप 849 5

महत्त्व 852 1

### जलाली

गौरवपूर्ण 849 18

दीप्ताग 157 11

प्रतापशाली 849 19

महत्त्वपूर्ण 852 8

### जलालुक

कमल मूल 112 14

### जलावगाहन

डाइयिंग 483 12

### जलायतन

देश निर्वासित 870 27

### जलायतनी

देश निर्वासन 870 10

### जलायतरण (दे.)

प्रवहन 1041 2

### जलायतरित

जलायतरित 1080 43 ⇨

### जलायतार

नौका घाट 1069 12

### जलायतारक

जलायतारक 1080 44 ⇨

### जलायतारण

जल अयतारण 1080 9

प्रवाहन 1041 3

### जलायतारण करना

जलायतारण करना 1080 37 ⇨

### जलायतारित करना

जलायतारण करना 1080 37

### जलायतीर्ण

जलायतारित 1080 43

### जलावन

ईधन 110 1

जलावन 110.4 ⇨

समिधा 753 29

### जलावन: लकड़ी

जलावन. लकड़ी 110.5 ⇨

### जलाबरोध

बोध 22.2

### जलायर्त

भेंवर 1040 24

### जलाशय

जलाशय 18 2 ⇨

झील 18 4

तालाब 18 10

### जलाशयज

जलाशयज 18.18 ⇨

### जलाशय भ्रम

मृग दर्शन 342.6

- जलाशायी**  
जलाशायी 18 17 ⇨
- जलाशय**  
बगला 126 54
- जलाहल**  
अति आर्द्र 88 28
- जलाहारी**  
जलाहारी 204.8 ⇨
- जली कटी**  
कटु वचन 432 3
- जली कटी चुनाना**  
कटु भाषण करना 432 8
- जलीय**  
जलीय 88 22 ⇨
- जलीय क्षेत्र**  
भूभागीय समुद्र 24 3
- जलीय धरातल**  
जलीय धरातल 25 2 ⇨
- जलील**  
अधम 840 4  
अपमानित 855 11  
लज्जित 845 10
- जलूका**  
जोक 122 8
- जलूस**  
जुलूस 1088 7
- जलेबी**  
जलेबी 203 13 ⇨
- जलेबी कड़ाही**  
छिछली कड़ाही 682 8
- जलेवाह**  
गनडुब्बा 483 15
- जलेश**  
वरुण 773 43  
रामुद्र 24 1
- जलेशय**  
विष्णु 768 1
- जलेश्वर**  
शिव 767 1
- जलोच्छ्वास**  
बाढ़ निकास 23 2
- जलोढ़**  
बाढ़ग्रस्त 22 6
- जलोढ़ भूमि**  
अनूप भूमि 25 25  
खादर 552 5
- जलोद्भव**  
नागर मोथा 281 22
- जलोद्बहन**  
जल उद्बहन 19 22
- जलीका**  
जोक 122 8
- जलीघ**  
बाढ़ 22 1
- जल्द**  
आसन्नत 67 12  
निकट भविष्य मे 36 35  
शीघ्रतः 496 13
- समय पूर्व** 62 15
- जल्दबाज़**  
जल्दबाज़ 496 12 ⇨  
घेर्यहीन 395 2
- जल्दबाज़ी**  
जल्दबाज़ी 496 4 ⇨
- जल्दबाज़ी में**  
जल्दबाज़ी मे 496 14 ⇨
- जल्द ही**  
आसन्नत 67 12  
निकट भविष्य मे 36 35
- जल्दी**  
आसन्नत 67 12  
निकट भविष्य मे 36 35  
प्रभात मे 47 21  
शीघ्रतः 496 13  
शीघ्रता 496 1  
समय पूर्वता 62 3
- जल्दी का रास्ता**  
सक्षिप्त मार्ग 1063 4
- जल्दी जल्दी खाना**  
सपोटनः 181 48
- जल्दी जल्दी खाने वाला**  
सपोटने वाला 181 61
- जल्दी रात में**  
जल्दी रात मे 48.15 ⇨
- जल्दी लिखना**  
आशु लेखन करना 412 40
- जल्दी से**  
शीघ्रतः 496 13
- जल्दपूर्वक** 491 18
- जल्प**  
गपशप 435 6  
हीग 842 4  
बकवास 478 7  
वितंडा 324 5
- जल्पक**  
गपशप कर्ता 435 27  
बातूनी 435 28  
वितंडावादी 324 27
- जल्पना**  
बकवास करना 428 14  
वितंडा 324 5
- जल्साद**  
अत्याचारी 835 13  
क्रसाई 206 43  
जल्साद 871 17 ⇨
- जल्पए तूर**  
मूसा जल्पए तूर 791 24
- जव**  
एक धाव 484 2  
जी 187 15  
वेग 1042 9  
शीघ्रकारी 496 9
- जवन**  
वेग 1042 9
- जवनिका**  
पाल 1073 10
- यवनिका** 606 1
- जवनिमा**  
वेग 1042 9
- जवनी**  
अजवायन 281 7
- जवस**  
डठल भूसा 114 5
- जवौ मर्द**  
युवक 231 8
- जवौ मर्दी**  
वीरता 396 1
- जया**  
सिवइयों 192 17
- जया कुसुम**  
उपयन पुष्प सूची 14 2  
जया कुसुम 14 17 ⇨
- जयाखार**  
जयाखार 87 13 ⇨
- जयाधिक**  
दुतगामी [दुतगामिनी] 1044 7
- जयान**  
युवक 231 8  
युवा 231 12  
योद्धा 934 15  
वीर 396 6
- जयान (भारत)**  
सैनिक 434 1
- जयान न रहना**  
वृद्ध होना 232 7
- जयानसात**  
नवयुवक 231 2
- जगन होना**  
जा होना 231 11
- जयानी**  
जीवन नीन अवस्था सूची 229 16  
यौवन 231 6
- जयानी आना**  
युवा होना 231 11
- जयानी की दहलीज़**  
जयानी अवस्था 230 27
- जयानी बीतना**  
वृद्ध होना 232 7
- जवाब**  
अभिवादन उत्तर 1060 22  
उत्तर 334 1  
उत्तर पक्ष 324 13  
पत्रोत्तर 444 3  
परिणाम 510 1  
पैतरा तोड़ 486 21  
प्रतिक्रिया 504 4  
प्रतिदान 641 7  
प्रतिप्रहार 918 4  
प्रतिरक्षा 908 2  
प्रतिरोध 915 1  
प्रतिवाद 324 10  
प्रतिशोध 873 2  
प्रत्याक्रमण 914 5  
मत्र नाशन 758 8
- सममिति** 1026 2
- समान प्रतियोगिता** 707 3
- स्पष्ट अस्वीकृति** 338 2
- स्पष्टीकरण** 876 11
- जवाबतलबी**  
स्पष्टीकरण मॉग 875 19
- जवाब दर जवाब**  
उत्तर प्रत्युत्तर 334 5
- जवाब दाया**  
प्रतिवाद 324 10
- जवाब देते न बनना**  
निरुत्तर होना 335 7
- जवाब देना**  
अस्वीकार करना 338 18  
कार्य क्षमता खोना 488 8  
घ्युत करना 653 27  
देह शिथिल होना 492 12  
प्रतिप्रहार करना 918 22  
प्रतिरोध करना 915 4  
प्रतिवाद करना 324 22  
यत्र विकृत होना 536 5
- जवाबदेह**  
उत्तरदायी 895 11
- जवाबदेही**  
उत्तरदायित्व 895 3
- जवाब न देना**  
उत्तर न देना 335 5
- जवाब न बनना**  
निरुत्तर होना 335 7
- जवाब न मिलना**  
अनुत्तरित रहना 335 6
- जवाब मौगना**  
पूछना 333 19
- जवाब मे**  
प्रतिक्रियात्मक 504 23
- जवाबी**  
प्रतिक्रियात्मक 504 22  
सममित 1026 8
- जवाबी कापी**  
उत्तर पत्रिका 322 17
- जवाबी जादू**  
जवाबी जादू 474 3 ⇨
- जवाबी पत्र**  
पत्रोत्तर 444 3
- जवाबी मार**  
प्रतिप्रहार 918 4
- जवाबी वज़न**  
प्रतिभार 1061 9
- जवाबी हमला**  
प्रतिप्रहार 918 4  
प्रतिहिंसा 251 16  
प्रत्याक्रमण 914 5
- जवाबारा**  
जी अकुर 113 2
- जवाहर**  
मणि 96 15  
रत्न 96 1

## जवाहर कट

### जवाहर कट

जवाहर कट 585 57 5

### जवाहरात

रत्न समूह 97 1

### जवाहरात (बहु)

रत्न 97 1

### जवाहिर

रत्न 97 1

### जवाहिर खाना

राज भवन 600 4

### जदी

दुतगामी [दुतगामिनी] 1044 7

### जवे

मीमी शिवइधो 203 29

### जशोदा

यशोदा 771 79

### जशन

उत्सव 56 1

संगीत नृत्य सभा 468 4

### जशन मनाना

मध्यपान करना 209 46

### जस

जैसा 317 32

जैस 514 21

### जसगाथा

मरसिया 452 24

### जसद

जरता 94 5

### जसमति

यशोदा 771 79

### जसवत [जसवंती]

ख्यात 847 3

### जसीम

बलिष्ठ 160 10

### जसुदा

यशोदा 771 79

### जसोदा का जाया

कृष्ण 771 1

### जसोमति

यशोदा 771 79

### जसोवे

यशोदा 771 79

### जस्टिस (अँ)

न्यायमूर्ति 874 17

न्यायाधीश 874 15

### जस्त

जरता 94 5

### जस्ता

अष्टधातु सूची 93 6

जस्ता 94 5 ⇨

### जहँ

जहाँ 30 3

### जहबम

दोजख 259 8

### जहबम

दोजख 259 8

### जहभुम

नरक 259 6

### जहमत

अरुणोमा 519 3

कष्ट 127 1

खटराग 147 4

### जहर

विष 177 2

### जहरबाद

रुधिर पूर्यता 169 10

### जहरा

पिताशय 132 14

### जहरी

विषधर सर्प 123 14

विषाक्त 177 9

### जहरी नाग

विषधर सर्प 123 14

### जहरीला [जहरीली]

विषाक्त 177 9

### जहरीला दौत

विष दत्त 144 11

### जहरीलापन

विषाक्तता 177 3

### जहाँ

जहाँ 30 3 ⇨

ब्रह्मांड 1 1

लोक 258 1

### जहाँ कही

चतुर्दिशत 29 36

### जहाँगर्द

पर्यटनप्रिय 1090 41

### जहाँगर्दी

पर्यटन प्रियता 1090 1

विश्वाटन 1090 12

### जहाँगश्त

खानाबदोश 1090 44

### जहाँगीर

विश्व विजेता 912 20

### जहाँ जी चाहे

अनिषिद्धत 880 15

### जहाँ तक हो सके

यथाक्षमता 487 32

### जहाँ तहाँ

क्रमहीनत 992 7

चतुर्दिशत 29 36

सुलभत 943 7

### जहाँदीदा

अति अनुभवी 303 18

### जहाँ देखो यहाँ

सुलभत 943 7

### जहाँपनाह

रजा [रानी] पदनाम (शास्त्र) सूची 882 10

सम्राट 882 24

### जहाँ पर

जिधर 30 4

### जहाँबीनी

जहाँबीनी 262 7 ⇨

### जहाज़

पाल नौका 1072 9

विमान 1074 10

समुद्र पोत 1072 40

### जहाज़: अतिरिक्त जल नाला

बरनाला 23 10

### जहाज़: गोल खिडकी

पोर्टहोल 608 19

### जहाज़ मजदूर

खलासी 1080 22

### जहाज़ मालिक

नी प्रभु 1080 15

### जहाज़रान

खलासी 1080 22

### जहाज़रानी

नौकायन 1080 1

नौविद्या 1080 30

नौसेवा 1068 7

### जहाज़ी

खलासी 1080 22

नाविकीय 1080 40

### जहाज़ी डाकू

समुद्री बटमार 864 36

### जहाज़ी बेड़ा

बेड़ा 1072 51

### जहाज़ी रास्ता

जल मार्ग 1066 5

### जहान

इहलोक 758 11

पृथ्वी 9 1

लोक 258 1

### जहानत

प्रतिभा 301 8

### जहालत

असभ्यता 734 1

निरक्षरता 320 2

मूर्खता 302 1

### जहीन

तीक्ष्णधी 301 33

प्रतिभाशाली 301 27

बुद्धिमान 301 21

### जहीर

संरक्षणपूर्ण सहायक 700 27

### जहोवा

जेहोवा 764 15

### जहनु

विष्णु 768 1

### जौगर

सूखा डठल 114 4

### जौगर चौर

कामचोर 490 10

### जौगरा

बदीजन 841 15

### जांगल

आखेट मास 206 14

### जांगली

बन्धतापूर्ण 734 17

### जाँगलू

बन्धतापूर्ण 734 17

### जाँघ

जाँघ 149.13 ⇨

### जाँघ: अस्थि

जाँघ अस्थि 133 18 ⇨

### जाँघ टोकना

जाँघ टोकना 917 7 ⇨

### जाँघा

अक्ष दंड 1077 12

### जाँघिक

दौड़ाक 484 15

धावक रादेश पाहक 443 4

### जाँघिया

पत्रमिया 587 9

### जाँघ

आकलन कर्म 947 6

आजमाइश 524 5

कला समीक्षा 398 3

परीक्षा 322 11

### जाँघ आयोग

तथ्यान्वेषण आयोग 336 2

### जाँघ उड़ान

परख उड़ान 1081 14

### जाँघ करना

तथ्यान्वेषण करना 336 16

### जाँघ कर्ता

तथ्यान्वेषी 336 24

### जाँघ कृत

तथ्यान्वेषित 336 23

### जाँघना

तथ्यान्वेषण करना 336 16

मूल्यांकन करना 664 19

समीक्षा करना 398 7

स्वाद लेना 275 11

### जाँघना परखना

विमर्श करना 330 16

### जाँघ पड़ताल

अतपरीक्षण 284 27

तथ्यान्वेषण 336 1

विकार परीक्षा 171 6

### जाँघ पड़ताल करना

तथ्यान्वेषण करना 336 16

### जाँघ परख

आजमाइश 524 5

विकार परीक्षा 171 6

विमर्श 330 11

### जाँघ परख कर

विचारितत 330 29

### जाँघा [जाँघी]

आकलित 947 21

आजमाया [आजमाई] 524 17

तथ्यान्वेषित 336 23

परीक्षित 322 37

### जाँघा परखा [जाँघा परखी]

विमर्शित 330 28

### जाँघा

जीवीय 121 17

बन्धतापूर्ण 734 17

### जाँघिक

जीवीय 121 17

<b>जौता</b>	<b>जागतिक</b>	<b>जाग्रतता</b>	संग्रह 669 2
चक्की 560 13	विश्व स्तरीय 25 9	जागरूकता 301 15	सतान 718 1
<b>जौनशीन</b>	<b>जागना</b>	जाग्रत अवस्था 265 1	<b>जात कर्म</b>
उत्तराधिकारी 623 2	आलोकित होना 185 38	<b>जाग्रत मन</b>	जातक सरकार 798 9
खलीफा 744 17	जागना 265 5 ८	चेतन मन 352 2	रोलह सरकार सूची 798 3
<b>जौनिसार</b>	प्रयत्न करना 489 5	<b>जाग्रत स्वप्न</b>	<b>जातक संस्कार</b>
जौनिसार 826 14 ⇨	विकसित होना 534 9	दिवा स्वप्न 267 2	जातक सरकार 798 9 ⇨
<b>जौनिसार दोस्त</b>	सावधान होना 497 3	<b>जाग्रति</b>	<b>जातदंत</b>
निस्वार्थ मित्र 705 10	<b>जागर</b>	चेतना लाभ 263 6	दंतुरित 144 16
<b>जौनिसारी</b>	आलोकित 285 45	बोध प्राप्ति 301 11	<b>जात निकाला</b>
जौनिसारी 826 7 ⇨	जागरूक 301 34	<b>जाचक</b>	जाति निर्वासन 870 11
<b>जाब</b>	जाग्रत 265 7	भिक्षुक 642 5	<b>जातपक्ष</b>
जामुन 190 20	<b>जागरण</b>	<b>जाचकताई</b>	पखोदभूत 151 17
<b>जांबवंत</b>	जागरण 265 2 ⇨	भिक्षा वृत्ति 642 4	<b>जातपुत्रा</b>
जाबवान 781 10	बोध प्राप्ति 301 11	<b>जाजम</b>	पुत्रवती 239 12
सातर्षि मडल 3 10	रतजगा 740 24	छपी चादर 593 21	<b>जातरा</b>
<b>जाबवती</b>	<b>जागरण कर्म</b>	<b>जाजलि</b>	जात्रा 463 20
कृष्ण आठ पत्नी सूची 771 12	जागरण 265 2	ऋषि मुनि सूची 789 17	राथ यात्रा 1088 10
<b>जांबवान</b>	<b>जागरण गीत</b>	<b>जाजिम</b>	<b>जाता</b>
जाबवान 781 10 ⇨	प्रभाती 451 28	छपी चादर 593 21	पुत्री 718 10
<b>जांबाज़</b>	<b>जागरा</b>	<b>जाज्वल्यता</b>	सतान 718 1
साहसी 394 13	जागरण 265 2	दीप्ति 287 16	<b>जाता [जाती]</b>
<b>जांबाज़ सैनिक</b>	<b>जागरुक</b>	<b>जाज्वल्यमान</b>	अस्तगामी 5 31
कमालो 934 14	चेतनायुक्त 263 12	अन्याधानित 107 13	गमनशील 1091 10
<b>जांबाज़ी</b>	जागरुक 301 34 ⇨	तेजोमंडित 839 11	निर्गमनशील 1092 16
वीरता 396 1	जाग्रत 265 7	दीप्त 287 34	सक्रमणशील 1091 15
<b>जाबील</b>	सावधान 497 4	<b>जाठर</b>	<b>जाति</b>
घुटना गोल अस्थि 133 19	<b>जागरुकता</b>	उदरीय 148 14	गोत्र 729 1
<b>जांबू</b>	जागरुकता 301 15 ⇨	<b>जाड़ा</b>	घमेली 14 16
जामुन 190 20	सावधानी 497 1	ठिठुरन 105 4	जनता 883 5
<b>जा</b>	<b>जागा [जागी]</b>	शीत काल 53 1	<b>जाति 730 1 ⇨</b>
देवरानी 724 29	उत्प्रेरित 499 8	<b>जा.श. वर्षा</b>	नस्ल 243 3
स्थान 33 1	उद्बोधित 499 10	शीत काल वर्षा 54 12	नृजाति 730 14
<b>जाइरो झील (अँ)</b>	जाग्रत 265 7	<b>जाड़े की चौदनी</b>	मात्रिक छद 452 3
स्थापिकी चक्र 1077 43	<b>जागीर</b>	अनुपयोगी वस्तु 526 1	मालती 14 21
<b>जाइरोस्कोप (अँ)</b>	जमींदारी 553 13	<b>जाइध</b>	राष्ट्र 881 1
स्थापिकी चक्र 1077 43	जागीर 553 16 ⇨	जड़ता 78 4	वश 727 1
<b>जाकट</b>	भू संपत्ति सूची 624 12	<b>जात</b>	वर्ण 731 2
जाकिट 585 56	<b>जागीर खिदमती</b>	उत्पन्न 546 9	समाज वर्ग 688 7
<b>जाकड़</b>	जागीर खिदमती 553 17 ⇨	<b>जात</b>	सामूह 690 1
जाकड़ पर खरीदा 660 19	<b>जागीरदार</b>	कोटि 936 1	<b>जातिगत</b>
<b>जाकड़ खरीद</b>	जमींदार 553 14	<b>जात</b>	आनुवंशिक 727 39
जाकड़ खरीद 660 8 ⇨	बड़ा जमींदार 553 15	घटित 75 11	स्वाभाविक 836 11
<b>जाकड़ पर खरीदा</b>	सामत 882 32	नवजात शिशु 230 4	<b>जातिगतता</b>
जाकड़ पर खरीदा 660 19 ⇨	<b>जागीर मनसबी</b>	पुत्र 718 3	आनुवंशिकता 727 17
<b>जाकड़ बही</b>	जागीर मनसबी 553 18 ⇨	<b>जात</b>	स्वाभाविकता 836 5
जाकड़ बही 632 18 ⇨	<b>जागृति</b>	व्यक्तित्व 836 1	<b>जातिव्युत</b>
<b>जाकड़ बिक्री बही</b>	जाग्रत अवस्था 265 1	स्वरूप 967 6	जाति निर्वासित 870 28
जाकड़ बही 632 18	<b>जाग्रत</b>	<b>जात [जाता]</b>	<b>जाति जन</b>
<b>जाकिट</b>	उद्बोधित 499 10	जन्मा [जन्मी] 248 10	स्वजन 725 1
जाकिट 585 56 ⇨	चेतनायुक्त 263 12	<b>जातक</b>	<b>जाति नाम</b>
<b>जाखिनी</b>	जागरुक 301 34	उत्पन्न 546 9	वश नाम 315 7
यक्ष स्त्री 779 2	जाग्रत 265 7 ⇨	जन्मा [जन्मी] 248 10	<b>जाति निर्वासन</b>
<b>जाग</b>	बोध प्राप्त 301 29	जातक 740.2 ⇨	जाति निर्वासन 870.11 ⇨
जागरण 265 2	सावधान 497 4	जीव 121.4	<b>जाति निर्वासित</b>
<b>जागता [जागती]</b>	<b>जाग्रत अवस्था</b>	नवजात शिशु 230 4	जाति निर्वासित 870 28 ⇨
जाग्रत 265 7	जाग्रत अवस्था 265 1 ⇨	बौद्ध भिक्षु 790 27	<b>जाति निर्वासित करना</b>
स्फूर्त 491 13		सकलन पुस्तक 446 23	जाति निर्वासित करना 870.19 ⇨

## जातिपरण

**जातिपरण**  
जायित्री 281 17  
**जाति प्रमुख**  
मुखिया 852 7  
**जातिफल**  
जायफल 281 16  
**जाति बहिष्कृत**  
जाति निर्वासित 870 28  
**जाति भावना**  
जातिवाद 884 32  
**जातिभ्रष्ट**  
जाति निर्वासित 870 28  
**जातियुक्त**  
जातियुक्त 730 17 ⇨  
**जाति याचक संज्ञा**  
संज्ञा सूची 425 15  
**जातिवाद**  
जातिवाद 884 32 ⇨  
प्रजातिवाद 884 33  
सम्प्रदायवाद 884 23  
**जाति विन्यस्त**  
कोटिकृत 936 13  
**जाति विन्यासकीय**  
कोटिकरणीय 936 12  
**जाति विन्यासन**  
कोटिकरण 936 5  
**जाति समूह**  
नृवश 730 15  
**जातिहीन**  
जातिहीन 730 18 ⇨  
**जाती**  
जूही 14 18  
ज़ाती  
वैयक्तिक 689 3  
**जातीय**  
कोटीय 936 7  
जनता विषयक 883 9  
जातीय 730 16 ⇨  
सामूहिक 690 13  
**जातीय असमानता**  
जातीय भेदभाव 884 30  
**जातीय ज्ञान**  
जातीय ज्ञान 305 10 ⇨  
**जातीयता**  
जातिवाद 884 32  
राष्ट्रीयता 881 2  
**जातीय भेदभाव**  
जातीय भेदभाव 884.30 ⇨  
**जातीय रंग**  
जातीय रंग 730 6 ⇨  
**जातीय समानता**  
भेदभावहीनता 884 31  
**जातुधान**  
पिशाच 786 8  
राक्षस 784 1  
**जाते**  
जाते जाते 1091 16

**जाते जाते**  
जाते जाते 1091 16 ⇨  
**जातेष्टि**  
जातक सस्कार 798 9  
**जात्य [जात्या]**  
उच्च कुलीन 728 15  
**जात्रा**  
जात्रा 463 20 ⇨  
तीर्थ यात्रा 1089 1  
यात्रा 1087.1  
रथ यात्रा 1088 10  
रथ यात्रा 57 19  
**जात्री**  
तीर्थ यात्री 1089 2  
यात्री 1087 2  
**जादा**  
पुत्र 718 3  
**जादी**  
पुत्री 718 10  
**जादुई**  
घमत्कारी 379 10  
जादुई 474.36 ⇨  
सम्भोहनपूर्ण 367 7  
**जादुई आलेप**  
जादुई आलेप 474.19 ⇨  
**जादुई काजल**  
जादुई काजल 474 20 ⇨  
**जादुई गोली**  
जादुई गोली 474 21 ⇨  
**जादुई चिराग**  
जादुई चिराग 474 23 ⇨  
**जादुई छड़ी**  
जादुई छड़ी 474 24 ⇨  
**जादुई दर्पण**  
जादुई दर्पण 474 25 ⇨  
**जादुई पत्थर**  
जादुई पत्थर 474 26 ⇨  
**जादुई बुकनी**  
जादुई बुकनी 474 27 ⇨  
**जादुई मंत्र**  
जादुई मंत्र 474.28 ⇨  
**जादुई रचना**  
तिलिस्म 474 13  
**जादुई रत्न**  
जादुई रत्न 474 29 ⇨  
**जादुई लकड़ी**  
जादुई लकड़ी 474 30 ⇨  
**जादुई सरसों**  
जादुई सरसों 474 32 ⇨  
**जादू**  
घमत्कार 379 4  
जादू 474 2 ⇨  
जादू खेल 474 1  
जादू प्रभाव 474.10  
धर्म चिकित्सा 172 1  
मंच कला सूची 397.11  
सम्भोह 367 1  
सुदरता 157 1

**जादू उपकरण**  
जादू उपकरण 474.18 ⇨  
**जादूकरण**  
जादूगरी 474.9  
**जादू करना**  
जादू करना 474.33 ⇨  
**जादूकृत**  
जादूकृत 474.37 ⇨  
**जादू खेल**  
जादू खेल 474.1 ⇨  
**जादूगर**  
कीर्मियागर 87 7  
जादूगर 474.11 ⇨  
**जादूगर [जादूगरनी]**  
सम्भोहन कर्ता 367 8  
**जादूगरनी**  
जादूगरनी 474.12 ⇨  
**जादूगरी**  
कीर्मियागरी 87.6  
जादू खेल 474 1  
जादूगरी 474.9 ⇨  
**जादू टोना**  
अभिमंत्रण 758 6  
टोना टोटका 759 1  
**जादू टोना (दे. टोना टोटका)**  
धर्म चिकित्सु 172 1  
**जादू टोना करना**  
टोना करना 759 16  
**जादू टोना कर्ता**  
टोना कर्ता 759 2  
**जादू: डंडा**  
जादुई लकड़ी 474 30  
**जादू तोड़ना**  
मंत्र काटना 758 34  
**जादू प्रभाव**  
जादू प्रभाव 474 10 ⇨  
**जादू मंतर**  
जादुई मंत्र 474 28  
टोना टोटका 759 1  
**जादू से नायब करना**  
छू मंतर करना 474 34  
**जान**  
ऊर्जा 101 1  
जीव 121 4  
जीवन 246 6  
तेजस्विता 839 5  
प्राण तत्त्व 245 1  
प्रिय वस्तु 369.2  
प्रेमपात्र 369 4  
प्रेमपात्रा 369 5  
मर्मस्थल 999 6  
शक्ति 487 1  
शारीरिक बल 160.2  
सार 84 16  
स्फूर्ति 491 2  
हृदय 146.5  
**जान कर**  
विचारितता 330.29

**जान का दुरभन**  
प्राणांतक शत्रु 706 7  
**जान का प्यासा**  
प्राणांतक शत्रु 706 7  
**जानकार**  
अनुभवी 303 17  
ज्ञानी 305 30  
परिज्ञाता 305 33  
विद्य 318.4  
**जानकारी**  
अनुभव 303.4  
अभिज्ञता 305.14  
ज्ञान 305 1  
परिज्ञान 305 13  
समाचार 440.1  
सूचना 441 1  
**जानकारी के लिए**  
सूचनार्थ 441 26  
**जानकारी विज्ञान**  
सूचना विज्ञान 441 2  
**जानकारी हासिल करना**  
परिज्ञात करना 305 25  
**जानकी**  
सीता 770.66  
**जान की अमान**  
प्राण क्षमा 250 2  
**जान की खैर**  
अभय दान 910 3  
**जानकी नाथ**  
राम 770 1  
**जान की बाज़ी**  
जान की बाज़ी 909 6 ⇨  
**जान की बाज़ी लगाना**  
जान की बाज़ी लगाना 909 17 ⇨  
**जान की भीख मँगना**  
प्राण क्षमा मँगना 250.12  
**जानकी यत्न**  
राम 770 1  
**जानकी सुत**  
लव कुरा 770 54  
**जान के साले पड़ना**  
जीवन रक्षा कठिन होना 909 16  
**जान जाना**  
मरना 249.18  
**जान जोखिम**  
जान की बाज़ी 909 6  
प्राण संकट 909 5  
**जान जोखों**  
प्राण संकट 909.5  
**जान डलाई**  
अनुप्राणन 1046.6  
**जान डालना**  
अनुप्राणित करना 1046.19  
**जानते**  
विचारितता 330.29  
**जानते बुझते**  
विचारितता 330.29



<b>जानवार</b>	<b>जानबख्शी</b>	<b>जाना 1091.6</b> ⇨	<b>जाने बेना</b>
जीवित 246.13	प्राण क्षमा 250 2	नष्ट होना 531.4	क्षमा करना 872.6
तेजस्वी 839 9	<b>जान बचना</b>	निकलना 1092.11	<b>जानेवन</b>
साहसी 394.13	आज्ञा मुक्त होना 348 5	प्रसव करना 244 11	प्रेमपात्र 369.4
<b>जान देना</b>	<b>जान बचाई</b>	मरना 249.18	प्रेमपात्रा 369 5
आत्मबलि देना 754.19	त्राण पलायन 916.3	विदा होना 1058.4	<b>जाने वाला</b>
प्रेमासक्त होना 368 15	<b>जान बचा कर पलायन</b>	व्यतीत होना 74.2	गंता 1091.9
<b>जाननहार</b>	त्राण पलायन 916.3	हानि होना 848.13	निर्गम कर्ता 1092 17
ज्ञानी 305 30	<b>जान बचा कर पलायित</b>	<b>जाना [जानी]</b>	<b>जानो</b>
परिज्ञाता 305.33	त्राण पलायित 916.21	आज्ञमाया [आज्ञमाई] 524 17	सादृश्य उक्ति सूची 309.26
<b>जानना</b>	<b>जान बचाना</b>	उद्घाटित (रहस्य) 822.25	<b>जाप</b>
ज्ञान होना 305 23	त्राण पलायित होना 916.12	ख्यात 847.3	जप 749.2
तथ्यान्वेषण करना 336 16	<b>जान बीना</b>	ज्ञात 305 29	<b>जापक</b>
परिधित होना 704 15	<i>जान बीना 631.19</i> ⇨	परिज्ञात 305 32	जप कर्ता 749.3
परिज्ञात करना 305 25	<b>जान बूझ कर</b>	प्राप्त (बोध) 301 28	<b>जाप करना</b>
बोध करना 301 18	विचारिततः 330 29	शिक्षार्जित 321.49	जपना 749.39
शिक्षा अर्जन करना 321.34	सकल्पपूर्वक 500 16	संज्ञात 441 18	<b>जाप कर्ता</b>
<b>जानना बूझना</b>	<b>जान बूझ कर गर्भ पातन</b>	<b>जानापन</b>	जप कर्ता 749 3
बोध करना 301.18	गर्भघात 241 4	सर्व संज्ञातता 441 9	<b>जापसाप</b>
<b>जान निस्सार</b>	<b>जान भरना</b>	<b>जाना पहचाना</b>	जपतप 749.1
आत्मबलिदानी 754 23	अनुप्राणित करना 1046.19	बहु परिधित 704 25	<b>जापा</b>
जौनिसार 826.14	<b>जानमाज़</b>	<b>जाना पहचाना [जानी पहचानी]</b>	प्रसव 244.1
<b>जान निस्सारी</b>	नमाज़ दरी 593 52	ख्यात 847.3	<b>जापाथर</b>
आत्मबलि 754 3	<b>जान मुश्किल में होना</b>	धिर परिधित 704.23	प्रसूति कक्ष 244.7
जौनिसारी 826 7	संकट आना 909.13	<b>जानापहचानापन</b>	<b>जापानी नाटक</b>
<b>जानने योग्य</b>	<b>जान लगा कर</b>	धिर परिधितता 704.9	काबुकी 463.12
जिज्ञास्य 305 44	अति परिग्रम पूर्वक 493 15	<b>जाना माना [जानी मानी]</b>	<b>जापानी शोती</b>
ज्ञान योग्य 305 42	<b>जान लगाना</b>	ख्यात 847.3	कल्प्यई पर्ल 97.3
<b>जानने वाला</b>	अति परिग्रम करना 493.7	गण्य 852 9	<b>जापानी शिपि</b>
परिधित 704 19	<b>जान लंबों पर आना</b>	लोकमान्य 849.21	धित्रलिपि 409 13
परिज्ञाता 305 33	मरणासन्न होना 249 21	<b>जानामानापन</b>	<b>जापी</b>
<b>जान पढ़ना</b>	<b>जान लुटाना</b>	नोकमान्यता 849.8	जप कर्ता 749 3
अनुभूति होना 263 7	आत्मबलि देना 754.19	<b>जानिब</b>	<b>जाक्रवान</b>
सादृश्य आभास होना 309 12	<b>जान लेना</b>	दिशा 29 1	केसर 274 16
स्फूर्ति आना 491.6	बोध करना 301 18	दिशा में 29 35	<b>जाक्रवी</b>
<b>जानपद</b>	मारना 251.18	पार्श्व 997 1	<i>जाक्रवी 605 3</i> ⇨
जनपद स्तरीय 35.3	<b>जानलेवा</b>	<b>जानिबदार</b>	<b>जा बसना</b>
जनपदीय 34 15	प्राणांतक शत्रु 706 7	पक्षपाती 885 35	प्रवास करना 618 19
<b>जानपदिक</b>	मारक 251 24	<b>जानिबदारी</b>	<b>जाबा</b>
जनपद स्तरीय 35 3	<b>जानबर</b>	पक्षपातपूर्णता 885.2	मुख जाली 555.28
जनपदीय 34.15	पशु 127.1	<b>जानी</b>	<b>जाबालि</b>
<b>जानपदी</b>	पशुधन 127 7	प्रेमपात्र 369.4	ऋषि मुनि सूची 789.17
आंचलिक प्रवृत्ति 453 14	वन्यतापूर्ण 734.17	प्रेमपात्रा 369.5	<b>जाब्बा</b>
<b>जान पर आ बनना</b>	<b>जानबरपन</b>	<b>जानी दुश्मन</b>	परिपाटी 514 9
प्राण सकट में होना 909 15	वन्यता 734.5	प्राणांतक शत्रु 706.7	विधि (कानून) 878.1
<b>जान पर खेलना</b>	<b>जान सौंसत में होना</b>	<b>जानु</b>	<b>जाम</b>
जान की बाज़ी लगाना 909.17	प्राण संकट में होना 909.15	घुटना 149.14	गति स्तंभित 1047.25
<b>जान पहचान</b>	<b>जान सुली पर होना</b>	<b>जानु</b>	छोटा कटोरा 683.4
परिधितता 704.1	प्राण संकट में होना 909 15	जौघ 149 13	जामुन 190.20
<b>जान पहचान वाला</b>	<b>जानहुँ</b>	<b>जाने</b>	जामे सेहत 209.24
परिधित 704 19	सादृश्य उक्ति सूची 309.26	विचारिततः 330.29	जैम 201.8
<b>जान फूकना</b>	<b>जान होना</b>	<b>जाने अनजाने</b>	पहर 49 1
अनुप्राणित करना 1046 19	जीवनयुक्त होना 246.10	विचारहीनतः 330.30	प्याला 684 12
<b>जानबख्शा</b>	स्मदित होना 1039 14	<b>जाने का रास्ता</b>	मद्य 208.1
प्राण क्षमा कर्ता 250.18	<b>जाना</b>	निर्गम मार्ग 1092.3	मद्यपान पात्र 209.38
<b>जान बखाना</b>	अतीत होना 63.5	<b>जानेजी</b>	<b>जामगी</b>
प्राण क्षमा करना 250.11	अस्त होना 5.27	प्रेमपात्र 369.4	बंदूकः घोड़ा 927.7
	खो जाना 883.4	प्रेमपात्रा 369.5	बारुदः पत्नीता 927.21

## जामदग्न्य

जामदग्न्य  
परशुराम अवतार 769.28  
जामदानी  
परिधान संदूक 676.17  
जामन  
दही 193.9  
दही जमाई 554.10  
दही जमाई द्वय 554.11  
जामन लगाना  
दही जमाना 554.20  
जामवंत  
जांबवान 781.10  
जामवंती कुरती  
जामवंती कुरती 486.12 ⇌  
जाम साहब  
रजा [रनी] पकाम (कस्त) सूची 882.10  
जामा  
अंगरखा सूची 585.29  
परिधान 583.1  
पुत्र वधू 724.24  
वस्त्र 579.1  
वेश 589.1  
जामा: अंतर्परिधान  
नीमा 587.11  
जामा तलाशी  
झाड़ा तलाशी 336.15  
जामाता  
दामाद 724.22  
जामातु  
दामाद 724.22  
जामा मसजिद  
जामा मसजिद 745.18 ⇌  
जामादार  
जामादार 578.11 ⇌  
जामि  
बहन 723.6  
जामिन  
जमानतदार 869.8  
बंधक दायित्व दाता 633.21  
जामिन बनना  
जमानत देना 869.5  
जामी  
पुत्र वधू 724.24  
पुत्री 718.10  
बहन 723.6  
यामि 787.18  
जामुन  
खाद्य फल सूची 190.2  
जामुन 190.20 ⇌  
जामुनी  
बैंगनी 289.56  
वर्णाली रंग सूची 289.9  
जामे जमशेद  
धिरयोवन औषध 176.10  
जामे जहाँबी 262.8  
जामे जहाँनुमा  
जामे जहाँबी 262.8

जामे जहाँबी  
जामे जहाँबी 262.8 ⇌  
जामेय  
भानजा 722.43  
जामे सेहत  
जामे सेहत 209.24 ⇌  
जायंट (अँ)  
देव दानव 783.16  
जायंट खील  
जायंट खील 1034.12 ⇌  
जायंट खील (अँ)  
जायंट खील 1034.12  
जायका  
प्रथम प्रयोग 994.6  
रोचकता 400.4  
स्वाद 275.1  
जायका बिगड़ना  
करवा लगना 276.3  
जायका लेना  
स्वाद लेना 275.11  
जायकेदार  
स्वादित 275.20  
जायकेदारी  
स्वादितता 275.10  
जायचा  
जन्म कुडली 261.7  
जायज़  
वैध 878.26  
वैध 718.19  
संगत 438.6  
जायज़ता  
संतान वैधता 716.3  
जायज़ा  
आकलन 947.5  
तथ्यान्वेषण 336.1  
परीक्षा 322.11  
प्रथम प्रयोग 994.6  
जायद  
अतिरिक्त 945.4  
अधिक 944.5  
जायदाद  
भूसंपत्ति 624.11  
संपत्ति 624.1  
जायदाद औजीयत  
स्त्रीधन 623.4  
जायदाद शौहरी  
पत्नीधन 802.3  
जायफल  
जायफल 281.16 ⇌  
जाया  
अनुपभुक्त 525.6  
जाया  
पत्नी 803.6  
पुत्री 718.10  
जाया  
रदीकृत 526.17  
जाया [जाई]  
जन्मा [जन्मी] 248.10

जायाजीवी  
दारावलंबी 648.13  
जायानुजीवी  
दारावलंबी 648.13  
जार  
जार 806.5 ⇌  
प्रेम प्रतिद्वंद्वी 388.4  
मरतबान 676.11  
जार कर्म  
विवाह अनिच्छा 806.1  
ज़ारची  
मुनादी वाला 441.24  
जारज  
जारज 716.18 ⇌  
जारजात  
जारज 716.18  
ज़ार ज़ार रोना  
आर्तनाद करना 386.17  
जारण  
धातु दहन 108.3  
धातु शोधन 219.4  
धातु संगलन 565.11  
जारना  
धातु दहन करना 108.11  
जारिणी  
प्रेम प्रतिद्वंद्विनी 388.5  
व्यभिचारिणी 808.11  
जारित  
दग्ध (धातु) 108.17  
जारी  
अविराम 1049.10  
उद्घाटित 693.11  
चलता [चलती] 1046.25  
तारतम्यपूर्ण 1049.12  
प्रचलित 514.16  
संचल 1037.19  
जारी करना  
आरंभ करना 994.11  
उद्घाटन करना 693.6  
प्रवर्तित करना 693.7  
जारी करने वाला  
प्रवर्तक 693.14  
जारी रहना  
विराम न होना 1049.6  
जारेय  
धातु भस्म 176.20  
जारोत्पन्न  
जारज 716.18  
जारोत्पन्न  
बुहारने वाला 218.40  
ज़ार्जट  
शिक्रीन 580.43  
जालंधर  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
जालंधरी विद्या  
जादूगरी 474.9  
तिलिस्म 474.13

जाल  
कूट पारा 1013.9  
कूट युक्ति 819.8  
जादू प्रभाव 474.10  
जाल 572.16 ⇌  
जाला 572.17  
जाली झूला 1034.4  
तिलिस्म 474.13  
दल 691.1  
पशु पारा 1013.12  
मोतिया बिंद 164.4  
बड्यंत्र 827.8  
समूह 690.1  
जालक  
कूट पारा 1013.9  
जाल कर्म  
मधुआ कर्म 252.15  
जालप्रस्त  
पाराबद्ध 1013.27  
जाल: छनाई  
फिल्टरिंग 1009.10  
जाल डालना  
पारा लगाना 1013.20  
जालदार  
जालदार 572.20 ⇌  
जालपाद  
हंस 126.76  
जाल पारा  
कूट पारा 1013.9  
जाल पोत  
मधुआरी नाव 1072.30  
जाल रंध  
जाल रंध 572.19 ⇌  
जालसाज़  
कूटकार 98.15  
जालसाज़ी  
कूट कृति 98.7  
जालसाज़ी करना  
कूटकरण करना 98.10  
जाला  
जाला 572.17 ⇌  
झिल्ली 990.26  
जालिक  
मत्स्य आखेटक 252.16  
मदारी 473.23  
जालिका  
ज़जीर कवच 921.4  
जाल 572.16  
ज़ालिम  
अत्याचारी 835.13  
हिंसक 251.31  
ज़ालिमाना  
निर्दयतापूर्ण 835.9  
जालिया  
कूटकार 98.15  
जाली  
कूटकृत 98.14  
छलनी 580.21

जाफरी 805.3  
जाली 572.18 ⇨  
जाली झूला 1034.4  
दिखावटी 825.5  
नेटवर्क 577.20  
बुरका: नकाब 591.5  
मुख जाली 555.28  
शलाका कपाट 609.9  
जाली झूला  
जाली झूला 1034.4 ⇨  
जाली बस्तावेज़  
जाली बस्तावेज़ 412.21 ⇨  
जालीदार  
असघन बुना 576.31  
छिद्रित 271.24  
जालीदार 572.21 ⇨  
जालीदार अलमारी  
जालीदार अलमारी 671.8 ⇨  
जालीदार धैली  
जालीदार धैली 673.13 ⇨  
जालीदार बेल  
जालीदार बेल 571.46 ⇨  
जालीदार बोरा  
खरिया 673.19  
जाली पासा  
कपट पासा 479.24  
जाली सिक्का  
कूट मुद्रा 98.8  
जाब  
एक धाव 484.2  
जावक  
जावक 1054.6 ⇨  
जावक पत्र  
जावक पत्र 1054.7 ⇨  
जावती  
जावक पत्र 1054.7  
जावन  
गमन 1091.1  
जावन्य  
वेग 1042.9  
जावा मानव  
जावा मानव 128.6 ⇨  
जावित्री  
जावित्री 281.17 ⇨  
जासूस  
गुप्तचर 866.12  
जासूसी  
गुप्तचरी 866.10  
जासूस (औं)  
रत्न सूची 96.5  
जाह  
प्रतिष्ठा 849.2  
जाहपरस्त  
प्रतिष्ठा भक्त 849.18  
जाहवे  
जेहोवा 764.15  
जाहिर  
अगुप्त 822.28

उद्घाटित (रहस्य) 822.25  
प्रकट 822.27  
जाहिरन  
दिखावटी तौर पर 825.7  
प्रकटतः 822.33  
जाहिरा  
दिखावटी तौर पर 825.7  
प्रकटतः 822.33  
जाहिरा  
दिखावटी 825.5  
जाहिल  
अशिक्षित 321.42  
असभ्य 734.14  
निरक्षर 320.5  
मूर्ख 302.7  
जाहिली  
असभ्यता 734.1  
जाहो जलाल  
मान प्रतिष्ठा 849.1  
जाह्नवी  
गंगा नदी 20.10  
जिंक (औं)  
जस्ता 94.5  
जिंदगानी  
जीवन 246.6  
जिंदगी  
आयु 229.1  
उत्साह 491.1  
जीवन 246.6  
स्फूर्ति 491.2  
जिंदगी भर  
आयु पर्यंत 229.28  
जिंदा [जिंदी]  
उत्साहपूर्ण 491.9  
जिंदा [जिंदी]  
उत्साही 491.11  
जिंदा [जिंदी]  
जीवित 246.13  
श्वासयुक्त 245.23  
जिंदा तार  
जिंदा तार 102.9 ⇨  
जिंदाविल  
उत्साही 491.11  
प्रसन्नचित्त 837.18  
स्फूर्त 491.13  
जिंदाविली  
उत्साह 491.1  
प्रसन्नचित्तता 837.7  
स्फूर्ति 491.2  
जिस  
कुटुंब 726.7  
कोटि 936.1  
जाति 730.1  
वस्तु 666.1  
सामान 666.3  
जिसखाना  
भंडार घर 670.5

जिसवार  
कोटि अनुसार 936.15  
जिसवारी  
कोटिकरण 936.5  
जिंसी  
कोटीय 936.7  
जातीय 730.16  
जिंक  
उल्लेख 437.6  
घर्षा 436.1  
प्रसंग 437.1  
वृत्तांत 449.14  
सदर्भ 437.3  
जिंक आने पर  
सदर्भवश 437.17  
जिगर  
यकृत 148.7  
जिगर का टुकड़ा  
प्रिय पुत्र 718.7  
जिगरा  
यकृत 148.7  
साहस 394.1  
जिगरी  
घनिष्ठ 704.27  
जिगरी दोस्त  
घनिष्ठ मित्र 704.14  
जिगरीपन  
घनिष्ठता 704.13  
जिगरी यार  
घनिष्ठ मित्र 704.14  
जिघत्सु  
मारणेच्छुक 251.25  
जिघांचु  
मारणेच्छुक 251.25  
जिघ्र  
अटकलबाज़ 947.20  
जिघ्र  
गतिरोध 1047.2  
जिजमान  
अज्ञान 743.6  
जिजीविषा  
जीवन इच्छा 246.7  
जिज्ञापयिषा  
संज्ञापनेच्छा 441.8  
जिज्ञासा  
खोज इच्छा 336.5  
जिज्ञासा 305.22 ⇨  
पृच्छा 333.2  
प्रश्न 333.1  
जिज्ञासा करना  
जिज्ञासा करना 305.27 ⇨  
जिज्ञासाजनक  
जिज्ञासाजनक 305.43 ⇨  
जिज्ञासाहीन  
जिज्ञासाहीन 306.19 ⇨  
जिज्ञासा होना  
जिज्ञासा होना 305.26 ⇨

जिज्ञासित  
प्रश्नित 333.23  
जिज्ञासु  
जिज्ञासु 305.45 ⇨  
प्रश्नकर्ता 333.24  
मोक्ष इच्छुक 257.2  
जिज्ञासु होना  
जिज्ञासा होना 305.26  
जिज्ञास्य  
जिज्ञास्य 305.44 ⇨  
ज्ञान योग्य 305.42  
जिज्ञास्यता  
ज्ञान योग्यता 305.21  
जिठानी  
जेठानी 724.31  
जित  
जहाँ 30.3  
जिधर 30.4  
पराजित 913.5  
जितकाम  
काम विजेता 237.16  
शिव 767.1  
जितक्रोध  
क्रोधहीन 372.13  
जितना [जितनी]  
जितना [जितनी] 946.14 ⇨  
जितना उतना [जितनी उतनी]  
आनुपातिक 947.24  
जितना चाहिए उतना  
आवश्यकतानुकूल 524.22  
जितना हो सके  
यथाक्षमता 487.32  
जितनी आशा थी  
प्रत्याशितता 941.12  
जितनी बार  
जब जब 36.27  
जितमन्यु  
क्रोधहीन 372.13  
विष्णु /68.1  
जितशत्रु  
जयी 912.15  
जितश्रम  
अति परिश्रमी 493.10  
जितसंग  
काम विजेता 237.16  
विरक्त 366.6  
जिताक्षर  
सुशिक्षित 321.45  
जितात्मा  
जितेंद्रिय 364.14  
जितारि  
गीतम बुद्ध 793.1  
जयी 912.15  
शत्रु विजेता 912.19  
जितावनहारा  
जयप्रद 912.17  
जितावनहारा [जितावनहारी]  
जयप्रद 912.17

## जिति

<b>जिति</b>	तीर्थकर 792.1	<b>जिबह</b>	सिर काट कर मृत्यु दंड 871.7	<b>जियारसकवा</b>	मफार 255.8
जय 912.1	भूत 786.1	हलाल 206.45	हलाल मांस 206.17	<b>जियारसी</b>	तीर्थ यात्री 1089.2
<b>जितेंद्र</b>	वयोवृद्ध 232.11	विष्णु 788.1	<b>जिम (अँ)</b>	<b>जिरगा</b>	ऋबीला 729.11
जितेंद्रिय 364.14	हठी 349.14	<b>जिन (अँ)</b>	जिमनेफ़ियम 482.21	दल 891.1	
<b>जितेंद्रता</b>	<b>जिन (अँ)</b>	जिन 209.7	<b>जिमनेफ़ियम</b>	पंचायत 892.1	
जितेंद्रियता 364.5	जिन का साया	जिन का साया	<i>जिमनेफ़ियम 482.21 ⇨</i>	मंडली 891.5	
<b>जितेंद्रिय</b>	भूत बाधा 759.7	<b>जिन को</b>	<b>जिमनेफ़ियम (अँ)</b>	<b>जिरह</b>	
काम विजेता 237.16	जिन को	जिन्हें 316.31	जिमनेफ़ियम 482.21	कवच 921.2	
<i>जितेंद्रिय 364.14 ⇨</i>	<b>जिन जिन्नात</b>	जिन जिन्नात	<b>जिनाई</b>	<b>जिरह</b>	
यति 790.8	असुर आदि 783.3	असुर आदि 783.3	खिलाई 183.22	ग्रंथि 572.1	
विरक्त 366.6	<b>जिन धर्म</b>	जिन धर्म	<b>जिनाना</b>	चीरा 174.4	
<b>जितेंद्रिय (दे.)</b>	जैन धर्म 737.1	जैन धर्म 737.1	परोंसना 183.35	<b>जिरह</b>	
कामहीन 237.17	<b>जिन रम्मी (अँ)</b>	जिन रम्मी (अँ)	<b>जिमाने वाले</b>	ज़जीर कवच 921.4	
<b>जितेंद्रियता</b>	रमी 478.17	रमी 478.17	घराती 801.6	<b>जिरह</b>	
<i>जितेंद्रियता 364.5 ⇨</i>	<b>जिनरिकशा (जापानी)</b>	<b>जिनरिकशा (जापानी)</b>	<b>जिमि</b>	<i>जिरह 324.7 ⇨</i>	
<b>जितेंद्रियता (दे.)</b>	रिक्सा 1071.52	रिक्सा 1071.52	जेसे 514.21	<i>जिरह 876.7 ⇨</i>	
काम विजय 237.7	<b>जिनाकार</b>	<b>जिनाकार</b>	सादृश्य. उक्ति सूची 309.26	<b>जिरह करना</b>	
<b>जितेंद्रिय होना</b>	व्यभिचारी 806.10	व्यभिचारी 806.10	<b>जिमीकंद</b>	<i>जिरह करना 324.21 ⇨</i>	
<i>जितेंद्रिय होना 364.8 ⇨</i>	<b>जिनाकारी</b>	<b>जिनाकारी</b>	ज़मीकंद 189.21	<b>जिरहकार</b>	
<b>जितै</b>	विवाह अनिष्टा 806.1	विवाह अनिष्टा 806.1	<b>जिम्नेस्ट</b>	<i>जिरहकार 324.28 ⇨</i>	
जिधर 30.4	<b>जिनेंद्र</b>	<b>जिनेंद्र</b>	<i>जिम्नेस्ट 485.7 ⇨</i>	तार्किक 325.24	
<b>जितैया</b>	बोधिसत्व सूची 793.16	बोधिसत्व सूची 793.16	<b>जिम्नेस्ट (अँ)</b>	<b>जिरह बख़्तर</b>	
जयप्रद 912.17	<b>जिनो को</b>	<b>जिनो को</b>	जिम्नेस्ट 485.7	कवच 921.2	
जयी 912.15	जिन्हें 316.31	जिन्हें 316.31	<b>जिम्नेस्टिक्स</b>	<b>जिरह बख़्तर</b>	
<b>जिता [जितै]</b>	<b>जिन्न</b>	<b>जिन्न</b>	<i>जिम्नेस्टिक्स 485.6 ⇨</i>	ज़जीर कवच 921.4	
जिताना [जितनी] 948.14	<i>जिन्न 786.3 ⇨</i>	<i>जिन्न 786.3 ⇨</i>	<b>जिम्नेस्टिक्स (अँ)</b>	<b>जिरह बख़्तर: लोहा</b>	
<b>जित्य</b>	देव दानव 783.16	देव दानव 783.16	जिम्नेस्टिक्स 485.6	वर्मलोह 93.14	
जेय 518.20	<b>जिन्न विषयक</b>	<b>जिन्न विषयक</b>	<b>जिम्मा</b>	<b>जिरहबाज़</b>	
<b>जित्या</b>	जिन्नाती 786.15	जिन्नाती 786.15	गारंटी 339.13	वितंडावादी 324.27	
सिरहाना पाटी 594.19	<b>जिन्नात (बहु)</b>	<b>जिन्नात (बहु)</b>	ठेका 659.13	<b>जिरहबाज़ी</b>	
<b>जित्वर</b>	जिन्न 786.3	जिन्न 786.3	दायित्व 895.1	वितंडा 324.5	
जयशील 912.16	<b>जिन्नाती</b>	<b>जिन्नाती</b>	प्रतिज्ञा 339.17	<b>जिरही</b>	
जयी 912.15	<i>जिन्नाती 786.15 ⇨</i>	<i>जिन्नाती 786.15 ⇨</i>	सिपुर्दगी 638.5	कवचधारी 921.15	
<b>जित्वा</b>	<b>जिन्नावद</b>	<b>जिन्नावद</b>	<b>जिम्मा पूरा करना</b>	<b>जिराफ़</b>	
जयशील 912.16	इसलामवाद 884.24	इसलामवाद 884.24	दायित्व पालन करना 895.7	<i>जिराफ़ 127.29 ⇨</i>	
जयी 912.15	<b>जिन्नी</b>	<b>जिन्नी</b>	<b>जिम्मा लेना</b>	<b>जिराफ़</b>	
<b>जिद</b>	जिन्नाती 786.15	जिन्नाती 786.15	ज़मानत देना 869.5	जिराफ़	
आग्रह 349.1	<b>जिन्हीं</b>	<b>जिन्हीं</b>	ठेका लेना 659.17	जिला	
हठ 349.4	जिन 316.9	जिन 316.9	<b>जिम्मे</b>	जनपद 34.6	
हठमत्ता 343.3	<b>जिन्हीं को</b>	<b>जिन्हीं को</b>	दायित्व पर 895.14	<b>जिला आक्रसर</b>	
<b>जिदन</b>	जिन्हे 316.31	जिन्हे 316.31	<b>जिम्मे करना</b>	जनपद प्रशासक 891.5	
हठपूर्वक 349.15	<i>जिन्हे 316.31 ⇨</i>	<i>जिन्हे 316.31 ⇨</i>	सिपुर्द करना 638.13	<b>जिलालाई</b>	
<b>जिदी [जिद्धन]</b>	<b>जिन्हीं</b>	<b>जिन्हीं</b>	<b>जिम्मेदार</b>	जनपदीय 34.15	
हठमत्तपूर्ण 343.14	जिन्हीं	जिन्हीं	दायित्व पालक 895.10	<b>जिला जज</b>	
हठी 349.14	जिन 316.9	जिन 316.9	<b>जिम्मेदारी</b>	जनपद न्यायाधीश 874.16	
<b>जिदीषन</b>	<b>जिप</b>	<b>जिप</b>	गारंटी 339.13	<b>जिलाधीरा</b>	
हठमत्ता 343.3	<i>जिप 571.18 ⇨</i>	<i>जिप 571.18 ⇨</i>	<b>जिम्मेदारी का</b>	जनपद न्यायाधीश 874.16	
<b>जिधर</b>	<b>जिप (अँ)</b>	<b>जिप (अँ)</b>	दायित्वपूर्ण 895.9	जनपद प्रशासक 891.5	
जहाँ 30.3	जिप 571.18	जिप 571.18	<b>जिम्मेदारी निबाहना</b>	<b>जिलाना</b>	
<i>जिधर 30.4 ⇨</i>	<b>जिपसम (अँ)</b>	<b>जिपसम (अँ)</b>	दायित्व पालन करना 895.7	अनुप्राणित करना 1046.19	
<b>जिधर तिधर</b>	उर्वरक मिट्टी 552.14	उर्वरक मिट्टी 552.14	<b>जिम्मेदारी से</b>	पुनरुज्जीवित करना 250.15	
घतुर्दिशत 29.36	<b>जिप्सम</b>	<b>जिप्सम</b>	दायित्वपूर्वक 895.13	<b>जिला परिषद</b>	
सुलभत 943.7	<i>जिप्सम 100.16 ⇨</i>	<i>जिप्सम 100.16 ⇨</i>	<b>जिम्मेदारी नाना</b>	जनपद परिषद 892.7	
<b>जिन</b>	<b>जिप्सम (अँ)</b>	<b>जिप्सम (अँ)</b>	दायित्वपूर्ण 895.9	<b>जिला बोर्ड (अँ)</b>	
गौतम बुद्ध 793.1	जिप्सम 100.16	जिप्सम 100.16	<b>जियारत</b>	जनपद परिषद 892.7	
जिन 209.7 ⇨			तीर्थ यात्रा 1089.1		
जिन 316.9 ⇨					
जिन्न 786.3					

**ज़िला मजिस्ट्रेट**  
जनपद न्यायाधीश 874 16

**जिल्द**  
जिल्द 418 1 ⇨  
त्वचा 134 1  
पुस्तक खड 447 1  
पुस्तक प्रति 446 8

**जिल्द कर्म**  
जिल्दसाजी 418 10

**जिल्द कर्मी**  
जिल्दसाज़ 418 11

**जिल्दखाना**  
जिल्दसाजी शाला 418 12

**जिल्दगर**  
जिल्दसाज़ 418 11

**जिल्दगरी**  
जिल्दसाजी 418 10

**जिल्ददार**  
जिल्दबद्ध 418 14

**जिल्द: पुट्टा**  
पुष्ट 418 8

**जिल्दबंद**  
जिल्दबद्ध 418 14

**जिल्दबंदी**  
जिल्दसाजी 418 10

**जिल्दबद्ध**  
जिल्दबद्ध 418 14 ⇨

**जिल्द बनाना**  
जिल्द बनाना 418 13 ⇨

**जिल्द बाँधना**  
जिल्द बनाना 418 13

**जिल्दसाज़**  
जिल्दसाज़ 418 11 ⇨

**जिल्दसाजी**  
जिल्दसाजी 418 10 ⇨

**जिल्दसाजी: शाला**  
जिल्दसाजी शाला 418 12 ⇨

**जिल्द सूची**  
जिल्द सूची 418.5 ⇨

**जिल्लत**  
अपमान 855 1  
दुखग्रस्तता 391 2  
दुर्दशा 627 8

**जिल्लो**  
सवारी घोड़ा 127 37

**जिब्बु**  
इंद्र 773 5  
जयशील 912 16

**जिस**  
जिस 316 10 ⇨  
जो 316 8

**जिस और**  
जहाँ 30 3  
जिघर 30 4

**जिस को**  
जिसे 316.32

**जिस तरह**  
जैसे 514.21

**जिस प्रकार**  
जैसे 514 21

**जिस प्रकार का**  
जैसा 317 32

**जिस भी समय**  
जभी 36 28

**जिस समय**  
जब 36 26

**जिसे**  
जिसे 316 32 ⇨

**जिसे देखो वही**  
सुलभत 943 7

**जिस्म**  
वक्ष 146 1  
शरीर 139 1  
स्तन 146 6

**जिस्मानी**  
शारीरिक 139 11

**जिहाद**  
धर्मार्थ युद्ध 742 18

**जिहादी**  
धर्मार्थ योद्धा 742 30

**जिहेज़**  
दहेज 802 4

**जिह्मग**  
मदगामी [मदगामिनी] 1045 11  
वक्रगामी 1098 25  
सर्प 123 10

**जिह्मगति**  
मदगामी [मदगामिनी] 1045 11

**जिह्व**  
जिह्वीय 143 13

**जिह्व्या**  
जिह्व्या 143 7 ⇨

**जिह्व्या लोलुपता**  
स्याद लोलुपता 275 9

**जिह्व्या स्थिति स्थान**  
उच्चारण स्थान 411 9

**जिह्व्याहीनता**  
वाचाहीनता 429 5

**जिह्वीय**  
जिह्वीय 143 13 ⇨

**जीस (अँ)**  
लग मोहरी पतलून 586 4

**जी**  
अभिरुचि 400 2  
इच्छा 359 1  
नामात पुरुष उपाधि सूची 856 8  
भोग लिप्सा 363 4  
मन 351 2  
स्वास्थ्य दशा 161 2  
स्वीकृति उक्ति सूची 337 28  
हों 337 29  
हृदय 146 5

**जीआर्ह (अँ) (अमरीका)**  
सैनिक 934 1

**जीउ**  
जीव 121 4

**जी उठना**  
पुनरुज्जीवित होना 250 14

**जीक्राद**  
हिजरी मास सूची 43 5

**जी की जलन**  
पित्ताधिक्य 163 28

**जी चाहना**  
इच्छा होना 359 10

**जी घुराना**  
कामचोरी करना 490 7

**जीजा**  
जीजा 724 35 ⇨

**जीजी**  
बड़ी बहन 723 10

**जी दूटना**  
साहस दूटना 195 17

**जीत**  
क्रीड़ा लक्ष्य प्राप्ति 475 24  
जय 912 1

**जीत**  
जयी 912 15

**जीतना**  
जीतना 912 12 ⇨  
टोना करना 759 16  
दमन करना 911 8  
वशीकरण करना 158 36

**जीता [जीती]**  
जयी 912 15  
जीवित 246 13  
श्वसयुक्त 245 23

**जीता जागता [जीती जागती]**  
जीवित 246 13

**जीतानू**  
राग सब्जी सूची 189 4

**जीता होना**  
जीवनयुक्त होना 246 10

**जीतेंद्र**  
जितेंद्रिय 364 14

**जीते जी**  
जय पर्यंत 229 28

**जीतो क कोशिश**  
अति परिश्रम 493 3

**जीन**  
जीन 580 14 ⇨

**जीन**  
जीन 595 47 ⇨  
पशु पीठ चादर 593 25

**जीन (अँ)**  
जीन 580 14  
वंशव्य 130 8

**जीनत**  
शोभा 226 1

**जीन सूची**  
जीन सूची 595 48 ⇨

**जीना**  
जीना 613 1 ⇨

**जीना**  
जीवनयुक्त होना 246 10

**जीनियस (अँ)**  
प्रतिभाशाली 301 27

**जीप**  
जीप 1071 58 ⇨

**जीप (अँ)**  
जीप 1071 58

**जी बहलना**  
शोक विस्मृत होना 393 16

**जी बहलाना**  
शोक विस्मृत करना 393 17

**जीभ**  
इंद्रिय सूची 268 2  
कलम जीभ 416 3  
जिह्व्या 143 7  
निब 416 17

**जीभ जलना**  
चरपरा लगना 278 10

**जीभ फेरना**  
घाटना 181 45

**जीभी**  
निब 416 17

**जीमखाना**  
जिमनेज़ियम 482 21

**जीमनहार**  
भक्षक 181 53

**जीमना**  
भोजन करना 181 32

**जीमने वाले**  
बराती 801 7

**जीमूत**  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
पालक पोषक 720 20  
मेघ 55 1

**जीमूत केशु**  
शिव 767 1

**जीमूत वाहन**  
इंद्र 773 5

**जीर**  
कण 938 2  
कवच 921 2  
जीरा 281 18

**जीरक**  
जीरा 281 18

**जीरा**  
केसर 115 11  
जीरा 281 18 ⇨

**जीरा पानी**  
जलजीरा 208 14

**जीरो (अँ)**  
शून्य 948 13

**जीर्ण**  
जर्जर 536 11  
प्राचीन 63 6  
हस्त 531 11

**जीर्ण खंड**  
फाइन 938 30

**जीर्णता**  
जर्जरता 536 3

## जीर्णन

वृद्धता 232 2  
शक्तिहीनता 488 1  
शिथिलकायता 159 5  
**जीर्णन**  
ढहन 539 3  
**जीर्ण परिधान**  
जीर्ण परिधान 583 4 ⇨  
**जीर्ण रोग**  
जीर्ण रोग 163 3 ⇨  
**जीर्ण वस्त्र**  
वैक्रांत 96 27  
**जीर्ण शीर्ष**  
जर्जर वृद्ध 232 12  
जीर्ण शीर्ष 536 12 ⇨  
दटा फटा [दूटी फूटी] 539 16  
ढहा [ढही] 539 17  
विदीर्ण 544 18  
शिथिलकाय 159 15  
**जीर्णशीर्षता**  
जर्जर वृद्धता 232 6  
शिथिलकायता 159 5  
**जीर्ण होना**  
जर्जर होना 536 6  
**जीर्णोद्धार**  
जीर्णोद्धार 598.11 ⇨  
नवीकरण 64 6  
मरम्मत 538 1  
**जीर्णोद्धार (दे.)**  
पुनर्रचना 527 4  
**जीर्णोद्धारक**  
जीर्णोद्धारक 598.15 ⇨  
**जीर्णोद्धार करना**  
जीर्णोद्धार करना 598.13 ⇨  
**जीर्णोद्भूत**  
जीर्णोद्भूत 598 14 ⇨  
नवीकृत 64 13  
मरम्मत कृत 538 8  
**जीर्णोद्भूत (दे.)**  
पुनर्रचित 527 18  
**जीवन**  
उत्साही 491 11  
जीवित 246 13  
सघल 1037 19  
साहसी 394 13  
स्फूर्त 491 13  
**जीवंतता**  
उत्साह 491 1  
चाज 101 7  
विलनसारिता 696 8  
सघलता 1037 3  
साहस 394 1  
स्फूर्ति 491 2  
**जीवंत न होना**  
स्फूर्ति न होना 492 9  
**जीवंत बनाना**  
अनुप्राणित करना 1046 19  
**जीवंत होना**  
स्फूर्ति आना 491 6

**जीवन्ती**  
हड़ 281 37  
**जीव**  
आत्मा 763 1  
कर्ण 771 47  
जीव 121.4 ⇨  
पशु 127 1  
**जीव आवास**  
जीव आवास 603 1 ⇨  
**जीव और प्रकृति भिन्न हैं.**  
द्वैतवाद 760 10  
**जीवक**  
जीव 121 4  
जैन साधु 790.24  
बौद्ध भिक्षु 790 27  
**जीवकीय**  
जीवीय 121 17  
**जीव गृह**  
शरीर 139 1  
**जीवघन**  
हिरण्य गर्भ 764 32  
**जीवघात**  
जीवघात 251.11 ⇨  
**जीवघाती**  
हिंसक 251.31  
**जीवघ्न**  
हिंसक 251 31  
**जीवः चेतन तत्त्व**  
प्राण तत्त्व 245 1  
**जीवजंतु**  
जीव 121 4  
**जीव जंतु आवास**  
जीव आवास 603 1  
**जीव जगत**  
जीव जगत 121.3 ⇨  
**जीवजात**  
जीव 121 4  
जीव जगत 121 3  
**जीवजीव**  
घकोर 126 33  
**जीवट**  
वीरता 396 1  
साहस 394 1  
**जीवटदार**  
साहसी 394 13  
**जीवत्पति**  
सुहागन 803 13  
**जीवथ**  
दीर्घायु 229 19  
धर्मशील 735 13  
धर्मशीलता 735 2  
पुण्य 814 1  
प्राण तत्त्व 245 1  
**जीवद**  
जीवन रक्षक 908 23  
**जीवदान**  
प्राण क्षमा 250 2

**जीव द्रव्य**  
जीव द्रव्य 129.1 ⇨  
**जीवधानी**  
पृथ्वी 9.1  
**जीवधारी**  
जीव 121 4  
**जीवन**  
अस्तित्व 246 1  
आयु 229 1  
जल 88.1  
जीवन 246 6 ⇨  
जीवन रक्षक 908 23  
दीर्घ काल 37.5  
प्रिय वस्तु 369 2  
हृदय स्पंदन 1039 4  
**जीवन (दे.)**  
प्राण तत्त्व 245 1  
**जीवनः अंतिम चरण**  
वृद्धता 232 2  
**जीवनः अवस्था**  
जीवन अवस्था 229.15 ⇨  
**जीवन इच्छा**  
जीवन इच्छा 246.7 ⇨  
**जीवन कथा**  
जीवनी 450 20  
**जीवन का दौब**  
जान कंधं बाजी 909 6  
**जीवन का पड़ाव**  
जीवन अवस्था 229 15  
**जीवन काल**  
आयु 229 1  
**जीवनघ्न**  
मारने वाला 251.26  
**जीवन चक्र**  
जीवन यात्रा 229 10  
**जीवन क्षरित**  
जीवनी 450.20  
**जीवनः चार अवस्था सूची**  
जीवनः चार अवस्था सूची 229.17 ⇨  
**जीवन चिह्न**  
चेतना 263 4  
**जीवन जल**  
जीवन जल 176 9 ⇨  
**जीवन जल (दे.)**  
अमृत 177 1  
**जीवनः तीन अवस्था सूची**  
जीवनः तीन अवस्था सूची 229.16 ⇨  
**जीवनद**  
ऊर्जायक 101.15  
चिकित्सक 171 13  
पुनरुज्जीवक 250.22  
**जीवन दर्शन**  
जीवन दर्शन 760.5 ⇨  
**जीवन दौब पर लगाना**  
जान की बाजी लगाना 909.17  
**जीवन दाता**  
जीवन रक्षक 908.23

**जीवन दान**  
आत्मबलि 754.3  
**जीवन दानी**  
आत्मबलिदानी 754.23  
**जीवन दीप बुझना**  
मरना 249 18  
**जीवन देना**  
आत्मबलि देना 754 19  
**जीवनः द्वितीय चरण**  
यौवन 231 6  
**जीवन धन**  
प्रिय वस्तु 369 2  
प्रेमपात्र 369 4  
**जीवन धारण करना**  
जन्म लेना 248 8  
**जीवनधारी**  
जीव 121 4  
**जीवन नाराक**  
मारक 251 24  
**जीवन निर्वाह**  
जीवन निर्वाह 625 2 ⇨  
**जीवन निर्वाह होना**  
जीवन निर्वाह होना 625.6 ⇨  
**जीवन पर्यंत**  
आयु पर्यंत 229.28  
दीर्घ काल तक 37 11  
**जीवनः प्रथम चरण**  
बाल अवस्था 230 21  
**जीवनप्रद**  
जनयिता 243.10  
पुनरुज्जीवक 250 22  
**जीवन बल**  
प्राण तत्त्व 245 1  
**जीवन बलिवान**  
आत्मबलि 754.3  
**जीवन बलिवान करना**  
आत्मबलि देना 754 19  
**जीवन बलिवानी**  
आत्मबलिदानी 754.23  
**जीवन बीमा**  
जान बीमा 631 19  
**जीवन भर**  
आयु पर्यंत 229.28  
**जीवन भर का साथ**  
विवाह 799.1  
**जीवन भोग के लिए है**  
भोगवाद 760.21  
**जीवनः मध्य काल**  
अधेकता 232 1  
**जीवन मरण**  
जीवन मरण 246.4 ⇨  
**जीवन मरणः मुक्ति**  
मोक्ष 257.1  
**जीवन मुरि**  
प्रिय वस्तु 369.2  
संपीठनी औषध 250 7  
**जीवन मृत्यु**  
जीवन मरण 246.4

विपरीतता: उपमान सूची 310 13  
**जीवन यात्रा**  
 जीवन यात्रा 229.10 ⇨  
**जीवन यापन**  
 जीवन निर्वाह 625 2  
**जीवन यापन साधन**  
 आजीविका 650 1  
**जीवनयुक्त**  
 जीवित 246.13  
 स्फूर्त 491 13  
**जीवनयुक्तता**  
 सचलता 1037 3  
 स्फूर्ति 491 2  
**जीवनयुक्त होना**  
 जीवनयुक्त होना 246 10 ⇨  
**जीवन रक्षक**  
 जीवन रक्षक 908.23 ⇨  
 मसीहा 791 3  
**जीवन रक्षा**  
 त्राण पलायन 916 3  
**जीवन रक्षा कठिन होना**  
 जीवन रक्षा कठिन होना 909.16 ⇨  
**जीवन रथ के दो पहिए**  
 दपती 803 4  
**जीवन: बसंत काल**  
 यौवन 231 6  
**जीवन वायु**  
 श्वास 245 4  
**जीवन वृत्त**  
 जीवनी 450 20  
**जीवन वृत्ति**  
 आजीविका 650 1  
**जीवन संप्राप्त**  
 जीवन संघर्ष 905 2  
**जीवन संघर्ष**  
 जीवन संघर्ष 905 2 ⇨  
**जीवन सहचर**  
 दपती 803 4  
**जीवन साथी**  
 दपती 803 4  
**जीवन स्तर**  
 जीवन स्तर 625 1 ⇨  
**जीवनहर**  
 मृत्युकारी 249.24  
 विषाक्त 177.9  
**जीवनहीन**  
 अजीवित 247 8  
 अबलिष्ठ 159 12  
 मृत 249.23  
**जीवनहीनता**  
 जड़ता 78.4  
**जीवनी**  
 जगबीती 450 18  
 जीवनी 450.20 ⇨  
**जीवनी लेखक**  
 जीवनी लेखक 448.12 ⇨  
**जीवनी संकलन**  
 जीवनी संकलन 446.30 ⇨

**जीवनेच्छा**  
 जीवन इच्छा 246 7  
**जीवनोत्सर्ग**  
 आत्मबलि 754 3  
**जीवनोद्धार**  
 मृतक: पुनरुज्जीवन 250.9  
**जीवनोन्मुखता**  
 प्रवृत्ति 502 1  
**जीवन्मृत**  
 मृतप्राय 249 29  
**जीवन्त्यास**  
 मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 598 9  
**जीव प्रमुख**  
 यानर 127 89  
**जीव प्रशिक्षण**  
 जीव प्रशिक्षण 555 9 ⇨  
**जीव प्रशिक्षण करना**  
 जीव प्रशिक्षण करना 555 30 ⇨  
**जीव प्लाव्मा**  
 प्लाव्मा 129 5  
**जीव बलि**  
 पशु बलि 754 8  
 हिंसक बलि 754 4  
**जीव: भोग शरीर**  
 सूक्ष्म शरीर 139 2  
**जीव मंदिर**  
 शरीर 139 1  
**जीव मातृका**  
 कुमारी 774 27  
**जीवमातृका**  
 कौमारी 774 32  
**जीवयाज**  
 पशु बलि 754 8  
**जीवयुक्त अंडा**  
 सामिष अंडा 206 4  
**जीव लोक**  
 इहलोक 258 11  
**जीव लोकीय**  
 इहलौकिक 258 13  
**जीव विच्छेदन**  
 जीव विच्छेदन 543 12 ⇨  
**जीव विषयक**  
 जीवीय 121 17  
**जीव वृत्ति**  
 प्रवृत्ति 502 1  
**जीवव्य**  
 जीव द्रव्य 129.1  
**जीव व्यवच्छेदन**  
 जीव विच्छेदन 543 12  
**जीवशास्त्र**  
 चिड़िया घर 603 10  
**जीवशेष**  
 त्राण मलायित 916 21  
 मृतप्राय 249.29  
**जीवशेष**  
 मातृ 128 1  
**जीव समष्टि**  
 जीव जगत 121 3

**जीव स्थान**  
 मर्मस्थल 999 6  
**जीव हत्या**  
 जीवघात 251 11  
**जीव हिंसा**  
 जीवघात 251 11  
**जीवहीन**  
 अजीवित 247 8  
**जीवहीन अंडा**  
 निरामिष अंडा 206 3  
**जीवांतक**  
 मारने वाला 251 26  
**जीवांतर लोक**  
 परलोक 258 12  
**जीवा**  
 अर्ध व्यास 972 14  
 चापकर्ण 972 10  
 धनुष प्रत्यचा 926 15  
**जीवाणु**  
 जीवाणु 122 4 ⇨  
 रोगाणु 122 5  
**जीवाति**  
 विटामिन 179 16  
**जीवाधार**  
 हृदय 146 5  
**जीवाधिन (प्र)**  
 विटामिन 179 16  
**जीवार्थ आहार**  
 जीवार्थ आहार 183 28 ⇨  
**जीवार्थ आहार सूची**  
 जीवार्थ आहार सूची 183 29 ⇨  
**जीवारम**  
 जीवार्थ 77.3 ⇨  
**जीविः**  
 आजीविका 650 1  
**जीविका: साधन**  
 व्यवसाय 650 9  
**जीविकाहीन**  
 आजीविकाहीन 649 11  
**जीविकीय**  
 आजीविकीय 650 17  
**जीवित**  
 अ-मृत 250 16  
 जीवित 246.13 ⇨  
 संचल 1037 19  
 स्पंदित 1039 18  
**जीवित (वे.)**  
 श्वासयुक्त 245 23  
**जीवित चर्च**  
 त्वचा 134 1  
**जीवित रहना**  
 न मरना 250 10  
**जीवितव्य**  
 संभावित आयु 229 2  
**जीवित होना**  
 जीवनयुक्त होना 246.10  
 संस चलना 245 17

**जीवितान्तक**  
 शिव 767 1  
**जीविता**  
 परावलंबितता 648 3  
**जीवितेश**  
 यमराज 256 1  
 सूर्य 8 1  
**जीवितेश्वर**  
 शिव 767 1  
**जीवी**  
 जीव 121 4  
 जीवित 246 13  
**जीवी (जैसे: बुद्धिजीवी)**  
 व्यवसायी 650 24  
**जीवीय**  
 जीवीय 121.17 ⇨  
**जीवेश**  
 ईश्वर 764 1  
**जीसस**  
 ईसा 791 8  
**जी हों**  
 हों 337 29  
**जी हुजूर**  
 घाटुकार 841 35  
**जुंजघर**  
 बरात घर 802 28  
**जुंघरी**  
 जुआर 187 14  
**जुंबी**  
 कपित 1039 20  
**जुबिश**  
 सचलन 1037.4  
**जुआ**  
 जुआ 1076 22 ⇨  
 दूत 481.1  
 हल जुआ 563 10  
**जुआ अंडा**  
 दूतगृह 481 13  
**जुआखाना**  
 दूतकक्ष 482 4  
**जुआ खेलना**  
 दूत खेलना 481.21  
**जुआघर**  
 दूतकक्ष 482 4  
 दूतगृह 481 13  
**जुआ चोर**  
 कपटी दूतकर 481 11  
**जुआ: छल**  
 दूत कपट 481.6  
**जुआठना**  
 जोतना 1079.17  
**जुआठा**  
 जुआ 1076.22  
 हल जुआ 563 10  
**जुआ निरीक्षक**  
 दूत निरीक्षक 481 12  
**जुआ निरीक्षण**  
 दूत निरीक्षण 481.7

## जुआ पहनाना

### जुआ पहनाना

जोतना 1079 17

### जुआर

जुआर 187.14 ⇨

### जुआः रस्सी

जोत रस्सी 555 16

### जुआरी

अक्ष द्यूतकर 481 9

जुआर 187 14

द्यूतकर 481 8

### जूई

कीट सूची 122 12

### जूई

काठ कलछी 681 6

### जुएबाज़

द्यूतकर 481 8

### जुएबाज़ी

द्यूत 481 1

### जुकाम

जुकाम 163 16 ⇨

नासिका मल 215 17

### जुग

जोड़ी 687 3

जोत जोड़ी 1071 32

जोत पशु 127 6

पीढ़ी 727 27

युग 40 1

### जुग जुग

दीर्घ काल तक 37 11

युग युग 73 9

हमेशा 1049 17

### जुगजुगाना

झिलमिलाना 287 31

### जुगजुगी

शकरखोरा 126 71

### जुगत

कूट युक्ति 819 8

दोंवपेच 819 11

युक्ति 517 1

सकट मोचक युक्ति 910 2

### जुगतबाज़

कूट युक्ति कर्ता 819 17

### जुगत लगा कर

युक्तिपूर्वक 517 14

### जुगतिथा

कूट युक्ति कर्ता 819 17

युक्ति कर्ता 517 10

### जुगली

कूट युक्ति कर्ता 819 17

### जुगनी

जुगनु 122 22

### जुगनु

जुगनु 122 22

### जुगनु

कीट सूची 122 12

जुगनु 122 22 ⇨

### जुगराक्षिया

भूगोल विद्या 10 1

### जुगल

जोड़ी 687 3

दपती 803 4

### जुगल जोड़ी

जोड़ी 687 3

मित्र दुकड़ी 705 5

### जुगवना

एकत्रित करना 667 7

सवरण करना 667 11

### जुगलना

जुगाली करना 181 43

### जुगाली

जुगाली 181.19 ⇨

### जुगाली करना

जुगाली करना 181 43 ⇨

### जुगाली करने वाला

जुगाली करने वाला 181.59 ⇨

### जुगुप्सा

घृणा 370 2

घिड़ 373 9

निदा 843 1

बीभत्स रस 455 14

### जुगुप्सा (बीभत्स)

स्थायी भाव सूची 358 4

### जुगुप्सित

निदित 843 20

### जुगुप्सु

घृणा कर्ता 370 7

निदक 843 22

### जुज

खड 938 1

पुस्तक खड 447 1

रहित 1007 3

सघटक 545 3

### जुजदान

बस्ता 673 11

### जुजबंदी

जुजबंदी 418.2 ⇨

### जुजबंदी: बंद

शीराजा 418 9

### जुजुत्सो

जुजुत्सो 486 14 ⇨

### जुज्व

पुस्तक खड 447 1

### जुझार

प्रतिरोधी 915 11

### जुझारू

प्रतिरोधी 915 11

यौद्धिक 905 33

### जुट

जोड़ी 687 3

थोक 666 13

मित्र दुकड़ी 705 5

### जुटना

प्रवृत्त होना 502 5

सयुक्त होना 1010 17

सटना 31 6

### जुटा [जुटी]

प्रवृत्त 502 10

समागत 694 31

### जुटाना

माँग पूर्ति करना 656.14

सग्रह करना 669 18

### जुटापन

अध्यवसाय 489 4

### जुटाव

अव्यवस्थित समूह 690 4

समागमन 694.17

### जुटे रहना

अध्यवसाय करना 489 7

### जुट्टी

गड़ड़ी 686 12

### जुट्ठा

पूला 686 19

### जुट्टी

छोटा पूला 686 20

### जुठारना

उच्छिष्ट करना 198.10

### जुठारा [जुठारी]

उच्छिष्ट 198 11

### जुठन

सयुजन 1010 9

### जुठना

एकत्रित होना 667 6

एक होना 698 8

धिपकना 1012 11

मिलना 389 5

सगम होना 21 32

सयुक्त होना 1010 17

सलगन होना 1013 15

सटना 31 6

समागम होना 694 25

### जुठवीं

यमज 723 26

### जुठवीं ठेला

ट्रेलर 1071 11

### जुठवींपन

यमजता 723 15

### जुठवीं संतान

यमज संतान 723.16

### जुठा [जुठी]

एकीकृत 698 10

जुठा [जुठी] 954.13 ⇨

जुठा [जुठी] 1079.21

झला [झली] 565 25

टँका [टँकी] 577 30

### जुठा [जुठी]

नस्थीकृत 417 15

### जुठा [जुठी]

संयुक्त 1010 22

संलगन 1010 18

सटा [सटी] 31 8

### जुठा [जुठी]

समागत 694.31

### जुकाई

आबद्धन 1013 1

जोड़ कर्म 954 2

झलाई 565 4

सद्य 645 3

सयोजन 1010 10

### जुकाना

वितुरना 105 18

### जुकापन

सयुक्तता 1010 8

सलगनता 1010 2

सटापन 31 2

### जुका यान

अनुयान 1070 9

### जुकाव

एकता 698 1

समागमन 694.17

### जुके

सलगनत 1010 26

### जुके जुके

सलगनत 1010 26

### जुतका

इक्का 1071 37

### जुतना

प्रवृत्त होना 502 5

सयुक्त होना 1010 17

सन्नद्ध होना 491 8

### जुता [जुती]

जुता [जुती] 1079 21 ⇨

प्रवृत्त 502 10

सन्नद्ध 491 16

हलित 548.48

### जुता अननुआ खेत

जुता अननुआ खेत 551 14 ⇨

### जुताई

यान जुताई 1079 1

हल कर्म 548 3

### जुताई करना

हल चलाना 548 34

### जुताई बैल

हल बैल 127 18

### जुताई यंत्र

ट्रेक्टर 563 15

### जुताई रक्षक

जुताई रक्षक 550.5 ⇨

### जुता खेत

जुता खेत 551.12 ⇨

### जुता कुआ खेत

जुता कुआ खेत 551.13 ⇨

### जुतिजीवल

जुतम पैजार 905.21

### जुतियाना

अपमानित करना 855.6

### जुतिया

जोतनहार 1079 22

### जुथा [जुथी]

सघन बुना 576 30



**जुदा**  
अलगीझा कृत 699 19  
असदृश 310 6

**जुदा**  
वियोगी 388.8

**जुदा**  
विशिष्ट 312 15

**जुदा [जूदी]**  
एकताहीन 699 14  
विलग्न 1011.5

**जुदाई**  
एकता भग 699 2  
दापत्य विच्छेद 804 6  
प्रिय वियोग 388 3  
विदा 1058 1  
वियोग शृंगार 455 21

**जुदा जुदा**  
विलगत 1011 7

**जुदापन**  
द्वैत भाव 752 9

**जुनून**  
आवेश 371 1  
उन्माद 354 4  
खक्त 353 11  
प्रेमासक्ति 368 8  
मद 211.1  
लग्न 493 4  
हठीलापन 349 5

**जुनूनी**  
उन्मत्त 354 22

**जुनूरिया**  
जुआर 187 14

**जुनूरी**  
जुआर 187 14

**जुनूहाई**  
चौदनी 287 6

**जुपिटर (अँ)**  
बृहस्पति ग्रह 7 6

**जुबली**  
जुबिली शो 468 8

**जुबान**  
जिह्वा 143 7

**जुबिली (अँ)**  
जुबिली शो 468.8

**जुबिली शो**  
जुबिली शो 468.8 ⇨

**जुबिली शो (अँ)**  
जुबिली शो 468.8

**जुमला**  
कुल संख्या 949.2  
जोड कल 854 3  
वाक्य 424 1  
सर्व 940.8

**जुमा मसजिद**  
जामा मसजिद 745 18

**जुमेरात**  
बृहस्पतिवार 46.7

**जुम्मा**  
शुक्रवार 46.8

**जुरमाना**  
अर्थ दंर 870.7

**जुराब**  
मोजा 588.7

**जुरी**  
ज्वर अनुभूति 163 20  
झुरझुरी 1039 13

**जुर्म**  
अपराध 861 1  
आरोप 875 7

**जुर्मत**  
साहस 394 1

**जुराब**  
मोजा 588 7

**जुल**  
चकमा 819 9

**जुलबाज़**  
चकमेबाज़ 819 18

**जुलबाज़ी**  
चकमेबाज़ी 819 10

**जुलाई**  
ईसवी मास सूची 43 4

**जुलाब**  
जुलाब 216 10 ⇨

**जुलाहा**  
कपड़ा बुनकर 576 5  
बुनकर जाति सूची 576 10

**जुलाहागीरी**  
कपड़ा बुनाई 576 4

**जुलाहागीरी करना**  
कपड़ा बुनना 576 25

**जुलूस**  
जुलूस 1088 7 ⇨  
शोभा यात्रा 1088 11

**जुलक**  
घुंघराले केश 137 13

**जुलक**  
लट 223 15  
स्त्री. लट 223 16

**जुलिकार**  
हज़रत अली. तलवार 924 10

**जुल्म**  
अत्याचार 835 3  
नादिर शाही 884 3  
न्यायहीनता 874 3  
यंत्रणा 391 13

**जुल्म तोड़ना**  
अत्याचार करना 835 6

**जुल्मी**  
अत्याचारी 835 13  
उत्पीड़क 391 29  
निर्दय 835 10

**जुल्मीपन**  
नादिर शाही 884.3

**जुल्मी सितम**  
अत्याचार 835.3

**जुष्ट**  
उच्छिष्ट 198.11  
परिचयित 651 27  
मुक्त 363 13  
सहित 1006 2

**जुस्तजू**  
खोज 336 4  
खोज इच्छा 336 5  
लालसा 359 5

**जुहार**  
आवाहन 1055 1  
प्रणाम 1060 13

**जुहारू**  
आवाहन कर्ता 1055 10

**जूही**  
जूही 14 18

**जूहू**  
पूर्व 29 11  
समुद्र तट 25 9  
समुद्री बेला तट 25 22

**जुहराण**  
चंद्रमा 8 2

**जू**  
कीट सूची 122 12  
जूँ 122 23 ⇨

**जू**  
नहर 23 3  
नामात पुरुष उपाधि सूची 856 8

**जू (अँ)**  
चिड़िया घर 603 10

**जूआ**  
जूआ 1076 22  
दूत 481 1  
हल जूआ 563 10

**जूआधारी**  
जूआधारी 1075 29 ⇨

**जूजू**  
हीआ 785 8

**जूझ**  
प्रतिरोध 915 1  
युद्ध 905 4

**जूझता [जूझती]**  
मुठभेड़ ग्रस्त 915 12

**जूझन**  
युद्ध कर्म 905 5

**जूझना**  
प्रतिरोध करना 915 4  
युद्ध करना 905 31  
सघर्ष करना 905 29

**जूट**  
सन 568 2

**जूट (अँ)**  
सन कपड़ा 579.12

**जूट बिछावन**  
टाट 593 50

**जूट मिल**  
जूट मिल 576.17 ⇨

**जूठन**  
उच्छिष्ट आहार 198 3

**जूठा [जूठी]**  
उच्छिष्ट 198 11  
भुक्त 363 13

**जूठा करना**  
उच्छिष्ट करना 198 10

**जूठापन**  
उच्छिष्टता 198 2  
भुक्तता 363 2

**जूझा**  
जूझा 223 14 ⇨

**जूझाइन (अँ)**  
यहूदी धर्म 736 24

**जूका: जाली**  
हेअर नेट 223 12

**जूका: पिन**  
हेअर पिन 223 13

**जूका बँधी जटा**  
जूझा बँधी जटा 137 9 ⇨

**जूकी**  
ज्वर 163 19  
झुरझुरी 1039 13

**जूकी चढ़ना**  
ठितुरना 105 18

**जूको**  
जूको 486 15 ⇨

**जूतम पैजार**  
जूतम पैजार 905 21 ⇨

**जूतम पैजार**  
जूतम पैजार 905 21

**जूता**  
जूता 588 14 ⇨

**जूता एकी**  
जूता एकी 588 28 ⇨

**जूता कील**  
चोबिया 1016.16

**जूता गैठाई**  
घर्म कर्म 582.2

**जूताघ**  
जूताघ 588 34 ⇨

**जूता चप्पल**  
पादत्राण 588.9

**जूता चोरी**  
जूती छिपाई 800 17

**जूता तला**  
जूता तला 588.27 ⇨

**जूता तसमा**  
जूता तसमा 571.32 ⇨

**जूता: पाताबा**  
जूता: पाताबा 588.35 ⇨

**जूता बनाई**  
घर्म कर्म 582 2

**जूता: बनावट और जुबरता**  
जूता: बनावट और जुबरता 588.28 ⇨

**जूती**  
जनाना जूता 588 15  
जूता 588.14

## जूतीखोर

सलीमशाही जूता 588 24  
जूतीखोर  
लज्जाहीन 846.8  
जूती बुराई  
जूती छिपाई 800 17  
जूती छिपाई  
जूती छिपाई 800 17 ⇨  
जूती पैज़ार  
जूतम पैज़ार 905 21  
जूते की नोक पर रखना  
नगण्य समझना 853 7  
पद प्रहार करना 918 29  
जूते भोजे  
पद परिधान 588 4  
जूते लगाना  
अपमानित करना 855 8  
जूथ  
दल 891 1  
सेना 932 1  
जूथना  
सघन बुनना 576 26  
जूथी  
जूही 14 18  
जूद  
शीघ्रकारी 496.9  
जून  
ईसवी मास सूची 43 4  
पहर 49 1  
मध्याह्न 47.9  
जूना  
जूना 218.14 ⇨  
जूना [जूनी]  
प्राचीन 63 6  
भुक्त 363.13  
जूनापन  
प्राचीनता 63 1  
जूना पुराना [जूनी पुरानी]  
जीर्ण शीर्ण 538 12  
जूनिबर  
अधीनस्थ 852.40  
जूरर (अं)  
जूरी सदस्य 874 23  
जूरी  
छोटा पूला 686 20  
जूरी 874.22 ⇨  
जूरी (अं)  
जूरी 874.22  
जूरीमैन (अं)  
जूरी सदस्य 874.23  
जूरी सचिव  
जूरी सदस्य 874.23 ⇨  
जूर्मि  
आदित्य 777 1  
वेग 1042 9  
जूल्हण्ड  
हिजरी मास सूची 43 5  
जूष  
भाजी रसा 201 24

जूस  
भाजी रसा 201 24  
जूस (अं)  
रस 84 3  
जूसर  
जूसर 83.6 ⇨  
जूसर (अं)  
जूसर 83 6  
जूसी  
घाशनी मल 280 6  
जूही  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
जूही 14 18 ⇨  
जूभ  
व्यापकता 981 3  
जूताक  
वाष्प स्नान कक्ष 221 19  
जूंद अवेस्ता  
जूंद अवेस्ता 739.18 ⇨  
जू  
जू 316 8  
यदि 507 12  
जूइ  
जू 316 8  
जूउ  
जू 316 8  
जूठ  
जूठ 724.30 ⇨  
जूष्ठ 43 9  
जूष्ठ 229.25  
जूठ: पुत्र  
जूठ पुत्र 722.25 ⇨  
जूठा  
बड़ा पुत्र 718 8  
बड़ा भाई 723 9  
जूठा [जूठी]  
जूष्ठ 229.25  
जूठा चाचा  
ताऊ 722 20  
जूठानी  
जूठानी 724.31 ⇨  
जूठा भाई  
बड़ा भाई 723.9  
जूठी  
जूठानी 724.31  
जूठी चाची  
ताई 722.21  
जूठीमधु  
मुलेठी 281.27  
जूठीत  
जूठ पुत्र 722.25  
जूठीला  
जूठ पुत्र 722 25  
जूठ (अं)  
यशब 96 23  
रत्न सूची 96 5  
जूता  
जयी 912 15

जूता [जूती]  
जितना [जितनी] 946 14  
जूतिक  
जितना [जितनी] 946.14  
जूतो  
जितना [जितनी] 946 14  
जूब  
जूब 672.1 ⇨  
जूब  
शोभा 226 1  
सुदरता 157.1  
जूबकट  
जूबकट 864 14 ⇨  
जूबकटाई  
जूबकटाई 864.13 ⇨  
जूबकतरा  
जूबकट 864 14  
जूब काटना  
जूब काटना 864.45 ⇨  
जूबरुर्ध  
निजी व्यय 644 5  
जूब घड़ी  
जूब घड़ी 50.23 ⇨  
जूब मारना  
जूब काटना 864 45  
जूबमारी  
जूबकटाई 864.13  
जूबी  
जूबी 672.11 ⇨  
जूबी घड़ी  
जूब घड़ी 50.23  
जूबी पुस्तक  
पाकेट बुक 446.3  
जूबो ज़ीनत  
शृंगार 222 1  
जूबा  
जूबा 127 33 ⇨  
जूबा क्रासिंग (अं)  
पैदल पारपथ 1064.13  
जूमन  
भोजन कर्म 181.4  
जूय  
जूय 518.20 ⇨  
जूयला  
जूयला 518.8 ⇨  
जूर  
आयोजन में 855.25  
जूर  
जरायु 152 15  
जूर  
दमित 911 14  
निम्नतः 983.6  
जूर जामा  
घोड़ा चादर 593 26  
जूर तजवीज़  
विद्याराधीन 330.21  
जूर नज़र  
विद्याराधीन 330.21

जूरबार  
अतिभारग्रस्त 963 15  
जूल  
जरायु 152 15  
जूल (अं)  
कारागार 868 21  
जूलखाना  
कारागार 868 21  
जूल गाड़ी  
बंदी गाड़ी 1070 15  
जूलघर  
कारागार 868 21  
जूलयाना (स्वतंत्रता संग्राम)  
कारावास दंड 868 13  
जूलर (अं)  
कारागार अध्यक्ष 868 22  
जूलड़ा  
रस्सा 570 7  
जूलड़ी  
जरायु 152 15  
रस्सी 570 5  
जूवना  
आहार पदार्थ 186 1  
जूवनार  
सहभोज 183.4  
जूवर  
आभूषण 228 1  
जूवरा  
फेक फेदा 1013 10  
जूसू  
ईसा 791 8  
जूहन  
मस्तिष्क 140 9  
जूहि  
जिसे 316.32  
जूहोवा  
जूहोवा 764 15 ⇨  
जूहन  
प्रतिभा 301 8  
बुद्धि 301 1  
जूहनी  
बुद्धीय 301.20  
जूहनीयत  
मनोवृत्ति 351.7  
जूदस बीअर (अं)  
पुरुष परिधान 583.9  
जू  
जितना [जितनी] 946.14  
जूक  
जूक 1062.11 ⇨  
जूक (अं)  
जूक 1062.11  
जूकअप करना  
प्रोत्संभन करना 1062.25  
जूक लगाना  
प्रोत्संभन करना 1062 25  
जूकार  
जयकार 912.3

- जेकारा**  
जयकार 912 3
- जेकिंग अप (ऑ)**  
प्रोतभन 1062 10
- जेकिट (ऑ)**  
जाकिट 585 56
- जेकेट (ऑ)**  
कोट 585 50
- जैगीषव्य**  
ऋषि मुनि सूची 789 17
- जैगीषव्यः पत्नी**  
एकपाटला 776 12
- जेट (ऑ)**  
जेट यान 1074 12
- जेट इंजन**  
जेट इंजन 1078 8 ⇨
- जेट प्लेन (ऑ)**  
जेट यान 1074 12
- जेट यान**  
जेट यान 1074 12 ⇨
- जेटस्टोन (ऑ)**  
काला सग मरमर 99 10
- जैटी**  
जैटी 1069 13 ⇨
- जैटी (ऑ)**  
जैटी 1069 13
- जैतपत्र**  
जयपत्र 906 7
- जैत्र**  
जय 912 1  
जयशील 912 16  
जयी 912 15  
पारा 94.9
- जैन**  
जैन 737.16 ⇨
- जैन**  
जैन धर्मावलंबी 737 2  
तीर्थकारीय 792 7
- जैन (ऑ) (जापान)**  
जैन 737 16
- जैन आहार**  
वैष्णव आहार 204 3
- जैन दर्शन**  
छह नास्तिक दर्शन सूची 760 29
- जैन धर्म**  
जैन धर्म 737.1 ⇨
- जैन धर्म विषयक**  
जैन धर्म विषयक 737.63 ⇨
- जैन धर्मावलंबी**  
जैन धर्मावलंबी 737.2 ⇨
- जैन मंदिर**  
जैन मंदिर 745.37 ⇨
- जैन मठ**  
जैन मठ 745.11 ⇨
- जैन साधु**  
जैन साधु 790.24 ⇨
- जैनी**  
जैन धर्म विषयक 737.63
- जैन धर्मावलंबी** 737 2
- जैन्य**  
जैन धर्म विषयक 737 63
- जैपलिन (ऑ)**  
वात यान 1074.15
- जैम**  
जैम 201 8 ⇨
- जैम (ऑ)**  
जैम 201 8
- जैम होना**  
गति स्तभन होना 1047 17
- जैमिंग (ऑ)**  
गति स्तभन 1047 6
- जैमिनी**  
ऋषि मुनि सूची 789 17
- जैरी केन**  
जैरी केन 679.41 ⇨
- जैरी केन (ऑ)**  
जैरी केन 679 41
- जैरोक्स (ऑ)**  
फोटोस्टेट 414 7
- जैल**  
निम्नत 983 6  
निम्न भाग 983 3  
पक्ति 691.4
- जैली**  
जैली 201 9 ⇨
- जैली (ऑ)**  
जैली 201 9
- जैव**  
चेतन 121 16  
जीवीय 121 17
- जैव इकाई**  
कोशिका 129 3
- जैव गैस**  
गोबर गैस 110 3
- जैव द्रव्य**  
जीव द्रव्य 129 1
- जैव वसा**  
जैव वसा 132 5 ⇨
- जैविक**  
जीवीय 121.17
- जैविकीय**  
जीवीय 121 17
- जैश्चर (ऑ)**  
अंग मुद्रा 464 33  
शारीर अभिनय 464 20
- जैस**  
जैसा 317 32
- जैसा**  
जैसा 317 32 ⇨
- जैसा [जैसी]**  
जैसा 317 32  
सदृश्य 309.20  
समान 309.22
- जैसा जी चाहे**  
अनिषिद्धतः 880 15
- जैसा था**  
यथापूर्व 533 13
- जैसा था वैसा रहना**  
परिवर्तन न होना 533.7
- जैसा सोचा था**  
प्रत्याशितत 941 12
- जैसी आशा थी**  
प्रत्याशितत 941 12
- जैसे**  
जैसे 514.21 ⇨  
परिस्थिति मे 69 14  
सादृश्य उक्ति सूची 309.26
- जैसे का तैसा**  
पूर्णतः समरूप 967.21  
यथापूर्व 533 13
- जैसे कैसे**  
कठिनत 519 31  
जैसे कैसे 514.22 ⇨
- जैसे को तैसा**  
प्रतिशोध 873 2  
समान (प्रतियोगी) 707 10
- जैसे तैसे**  
कठिनत 519.31  
जैसे कैसे 514 22  
शिथिलतः 1045 16
- जैसे थे**  
यथापूर्वतः 533 17
- जैसे भी**  
क्षमतापूर्वक 487 33  
जैसे कैसे 514.22
- जैसो**  
जैसा 317 32
- जैस्मिन (ऑ)**  
घमेली 14 16
- जैह्व**  
जिह्वीय 143 13
- जॉक**  
जॉक 122.8 ⇨
- जॉगट**  
दोहद 798 5
- जो**  
जितना [जितनी] 946 14  
जो 316 8 ⇨  
यदि 507.12
- जो आह्ला**  
स्वीकृति उक्ति सूची 337 28
- जोइ**  
जो 316 8
- जोउ**  
जो 316.8
- जोक (ऑ)**  
घुटकुला 450.26
- जोकर (ऑ)**  
विदूषक 467 19
- जोकरपना**  
विदूषकता 837.8
- जोकी (ऑ)**  
घुड़दौड़ आरोही 1082.9
- जो कुछ**  
जो 316.8
- जोख**  
आकलन 947 5  
भार माप 962.1  
माप 958.1
- जोखन**  
तौलन 962.2
- जोखना**  
आकलन करना 947 17  
तौलना 962.63  
विमर्श करना 330.16
- जोखा**  
लेखा चिट्ठा 632.22
- जोखिम**  
उद्यम 557.1  
जोखिम 519.5 ⇨  
संकट 909.1
- जोखिम उठाना**  
उद्यम करना 557 11  
संकट लेना 909 12
- जोखिमपूर्ण**  
जोखिमपूर्ण 619.20 ⇨
- जोग**  
योग 756 1
- जोगन**  
योगिनी 756 4  
योगिनी 774 77  
साधु स्त्री 790.17  
सिद्ध स्त्री 790.31
- जोगनी**  
जादुगरनी 474 12
- जोगा [जोगी]**  
योग्य 303.14  
सगत 438.6  
सुपात्र 303 15
- जोगिन**  
योगिनी 774 77  
योगिनी 756.4  
साधु स्त्री 790.17  
सिद्ध स्त्री 790 31
- जोगिनी**  
योगिनी 756 4  
योगिनी 774.77  
साधु स्त्री 790.17  
सिद्ध स्त्री 790.31
- जोगिया**  
गेरुआ 289.43  
बिहारी कृत्स्न साधु संघ 780.21  
योगी 756.3  
योगीय 756.28
- जोगीइ**  
योगेश्वर 756.5
- जोगी**  
जादुगर 474.11  
जोगीइ 457.33  
तपस्वी 789.14  
योगी 756.3

## जोगी [जोगन]

साधु संन्यासी 790 1  
जोगी [जोगन]  
शिवजीवी गुरुत्व साधु संग्रह्य 790.21  
जोगीका  
जोगीका 457.33 ⇨  
शिवजीवी गुरुत्व साधु संग्रह्य 790.21  
योगी 756 3  
जोगीश्वर  
योगेश्वर 756 5  
जोगेश  
योगेश्वर 756.5  
सिद्ध साधु 790.30  
जोगेश्वर  
सिद्ध साधु 790.30  
जोजन  
योजन 959 27  
जोट  
जोड़ी 687 3  
जोड़ीदार 687 24  
पुरुष मित्र 705 2  
समान (प्रतियोगी) 707 10  
समान प्रतियोगिता 707.3  
जोटी  
जोड़ीदार 687 24  
जोड़  
अवयव संधि 139 10  
आबद्धन 1013 1  
एकता 698 1  
कुल सख्या 949 2  
कुशली 486 7  
ग्रथि 572 1  
जोड़ कर्म 954.2  
जोड़ फल 954 3  
जोड़ी 687.3  
झलाई 565.4  
तुलना 309 1  
थेगली 577 10  
द्वंद्वचर्या 696 13  
प्रतियोद्धा 934 19  
युक्ति 517 1  
विद्युत सर्किट 102 5  
संघय 645.3  
संयुति 1010.7  
संयुति स्थल 1010.11  
सममिति 1026 2  
समान प्रतियोगिता 707.3  
जोड़ करना  
जोड़ करना 954.11 ⇨  
जोड़ कर्म  
जोड़ कर्म 954.2 ⇨  
जोड़ का  
समान (प्रतियोगी) 707 10  
जोड़ घटा  
जोड़ घटा 954.1 ⇨  
जोड़तोड़  
कूटनीति 819 1  
दोषपंच 819 11

जोड़दार  
सममिति 1026 8  
जोड़ना  
आयोजित करना 655 13  
एकत्रित करना 667.7  
गौठना 577 25  
घिनना 599 37  
धिपकाना 1012 12  
जोड़ करना 954 11  
जोतना 1079 17  
परिवर्धित करना 979 13  
बघाना 645.4  
मिलाना 389 6  
संग्रथित करना 573.10  
सग्रह करना 669.18  
सघय करना 645 5  
संलग्न करना 1010 14  
समाविष्ट करना 1002 13  
जोड़ने वाला  
सघयी 645 10  
सयुक्त कर्ता 1010 23  
सलग्न कर्ता 1010 20  
जोड़ फल  
जोड़ फल 954.3 ⇨  
जोड़ यंत्र  
ऐडिंग मशीन 950 15  
जोड़ लगाना  
झलाई करना 565 22  
जोड़वीं  
यमज 723 26  
जोड़हीन  
युतिहीन 1010 25  
जोड़हीनता  
युतिहीनता 1010.12  
जोड़ा  
उपहार परिधान सूची 583 23  
जुता 588 14  
जोड़ी 687 3  
दंपती 803 4  
नर मादा 236.20  
परिधान समुदाय 583.16  
विवाह वस्त्र 802.22  
जोड़ा [जोड़ी]  
जुका [जुकी] 954.13  
जोड़ा बना कर रहना  
द्वंद्वचर होना 696.21  
जोड़ा सूची  
जोड़ा सूची 583.17 ⇨  
जोड़िया  
यमज 723 26  
जोड़िवेक (अं)  
ज्योतिरचक्र 4.2  
राशिचक्र 4.4  
जोड़ी  
जुता 588.14  
जोड़ी 687.3 ⇨  
जोत जोड़ी 1071 32  
जोत पशु 127 6

तारा गड्डी 686.13  
दंपती 803 4  
नर मादा 236.20  
मकरी 1073.36  
मित्र दुकड़ी 705.5  
सामजस्य 702.1  
जोड़ीदार  
जोड़ीदार 687 24 ⇨  
द्वंद्वचर 696 14  
सामजस्यपूर्ण 702 6  
जोड़ीदारी  
द्वंद्वचर्या 696 13  
जोड़ीवाल  
मंजीरा वादक 461 71  
जोड़  
अति संघयी 645 11  
जोड़े से रहना  
द्वंद्वचर होना 696 21  
जोत  
कृषि 548 1  
खेत 551 1  
जुता खेत 551 12  
जोत रस्सी 555.16  
तुला पलड़ा रस्सी 570.13  
दीपक ज्वाला 285 18  
मंदिर दीपक 285 14  
यान जुताई 1079.1  
हल कर्म 548 3  
हल रेखा 551 20  
जोत गाड़ी  
जोत गाड़ी 1071.28 ⇨  
जोत चीका  
जोत चीका 1071 33 ⇨  
जोत जोड़ी  
जोत जोड़ी 1071.32 ⇨  
जोत टनडम  
जोत टनडम 1071 34 ⇨  
जोतदार  
कृषक 548.2  
हलवाहा 548.4  
जोतनहार  
जोतनहार 1079.22 ⇨  
हलवाहा 548.4  
जोतना  
जोतना 1079.17 ⇨  
हल चलाना 548.34  
जोतनी  
जोत रस्सी 555 16  
जोतने वाला  
जोतनहार 1079 22  
जोत पशु  
जोत पशु 127.6 ⇨  
जोत बैल  
जोत बैल 127.17 ⇨  
जोत यान चलाना  
जोत यान चलाना 1079 18 ⇨  
जोत यान चालक  
जोत यान चालक 1079 4 ⇨

जोत यान चालन  
जोत यान चालन 1079.3 ⇨  
जोत रस्सी  
जोत रस्सी 555.16 ⇨  
जोत रेखा  
हल रेखा 551 20  
जोतवान  
गाड़ीवान 1079 9  
जोतवी  
ज्योतिषी 261 2  
जोता  
जोत रस्सी 555 16  
जोता [जोती]  
जुता [जुती] 1079 21  
जोतिस  
फलित ज्योतिष 261.1  
जोतिसी  
ज्योतिषी 261.2  
जोती  
जुता खेत 551 12  
जो...तो  
कारण कार्य उक्ति सूची 507 20  
जोधपुर (अं)  
जोधपुरी कोट 585 52  
जोधपुरी कोट  
जोधपुरी कोट 585 52 ⇨  
जोधा  
योद्धा 934 15  
जोनल आफिस (अं)  
क्षेत्रीय कार्यालय 654 7  
जोन्हारी  
मक्का 187 17  
जो पै  
यद्यपि 507 14  
जोबन  
नवयौवन 231.1  
यौवन 231.6  
स्त्री स्तन 146 7  
जोम  
उत्साह 491 1  
प्रबलता 487.6  
जोअर  
अधिकार 897 1  
अधिकार दाबा 897.5  
अधोरेखा 968 7  
अधिचलता 500.5  
आग्रह 349 1  
करा 213.15  
क्षमता 487.7  
दाब 989.4  
प्रताप 849 5  
प्रबलता 487.6  
प्रभाव 511.1  
प्राण ताप 245 1  
रोग तीव्रता 163.10  
वस 899.13  
शक्ति 487 1  
शारीरिक बल 160.2

संवेग 1042.10  
स्फूर्ति 491.2  
स्वराघात 411.8  
जोर आज्ञादाहरण  
शक्ति परीक्षा 487.4  
जोर आज्ञानामा  
मुठभेद करना 915.8  
जोर ज्ञानवर्धनी  
छीना झपटी 635.8  
बलपूर्वक 487.31  
जोर ज्ञान  
अत्याचार 835.3  
जोर ज्ञानना  
दबाना 989.8  
जोरदार  
अधिकारपूर्ण 897.14  
आग्रहपूर्ण 349.10  
प्रबल 487.24  
प्रभावशाली 511.17  
शक्तिशाली 487.20  
सक्षम 487.25  
जोरदार हमला  
प्रबल आक्रमण 914.7  
जोर देना  
अधारेखाकित करना 968.37  
आग्रह करना 349.6  
जोर पर  
उकसावे से 499.14  
सहायता से 700.28  
जोर लगा कर  
कठिनतः 519.31  
जोर लगाना  
परिग्रम करना 493.6  
भाग्य परीक्षा करना 260.23  
जोर शोर  
उत्साह 491.1  
प्रबलता 487.6  
संवेग 1042.10  
जोर से  
क्षमतापूर्वक 487.33  
बलिष्ठता 160.16  
जोर से धरना  
जोर से धरना 1019.11 ⇨  
जोर से रोना  
आर्तनाद करना 386.17  
जोर से हँसना  
अट्टहास करना 384.8  
जोरजोरी  
अधिकारहीनतः 898.4  
छीना झपटी 635.8  
बलिष्ठता 160.16  
जोरदार  
बलिष्ठ 160.10  
हेकड़ीबाज 734.23  
जोर  
पत्नी 803.6  
जोर का गुलाम  
पत्नी सेवक 805.9

जोर का भाई  
साला 724.36  
जोरजाता  
बीवी बच्चे 726.11  
जोर दास  
पत्नी सेवक 805.9  
जोरा  
आवेश 371.1  
उत्तेजना 371.4  
उत्साह 491.1  
उन्माद 354.4  
उफान 91.3  
उबाल 91.2  
मद 211.1  
मन तरंग 351.6  
युद्ध उत्साह 907.3  
जोरा खाना  
आवेश आना 371.5  
जोरा खोना  
क्रुद्ध होना 373.15  
जोरा पर आना  
उबलना 91.9  
जोरा मारना  
उँडलना 1032.18  
उत्साहित होना 491.5  
जोरा में आना  
उत्तेजित होना 371.7  
उत्साहित होना 491.5  
जोरादा  
काका 208.19  
जोरी  
ज्योतिषी 261.2  
जोरीला [जोरीली]  
उत्साही 491.11  
स्फूर्त 491.13  
जोशुआ  
ईसा 791.8  
जोशे जुनून  
उन्माद 354.4  
जोशो खरोश  
आनंद मंगल 382.3  
उत्सवपूर्णता 56.2  
उत्साह 491.1  
जोषण  
सुप्ति प्रदान 361.6  
जोषणा  
भार माप 962.1  
जोह  
खोज इच्छा 336.5  
दृष्टि 282.1  
जोहक  
जोहक 18.7 ⇨  
जोहन  
अवलोकन 284.1  
खोज 336.4  
जोहना  
खोजना 336.17  
देखना 284.30

प्रतीक्षा करना 1057.5  
जो हो  
भले ही 507.19  
जो  
अनाज सूची 187.6  
जो 187.15 ⇨  
जो अंकुर  
जो अंकुर 113.2 ⇨  
जोकर  
कलापूर्णता 402.1  
रसिकता 837.9  
रुचि 400.1  
विलास 363.6  
जोग (अं)  
कूद घाल 484.12  
जोतुक  
दहेज 802.4  
जोन  
जिस 316.10  
जो 316.8  
जोन (अं)  
यहिया 791.25  
जोन को  
जिसे 316.32  
जो बुवाई  
घरवा 800.13  
जो: मद्य  
जो: मद्य 209.8 ⇨  
जोर्जेट  
जोर्जेट 580.13 ⇨  
जोर्जेट (अं)  
जोर्जे 580.13  
रास. गनिक वस्त्र सूची 579.15  
जोर्जेट क्लेप (अं)  
जोर्जेट 580.13  
जोर्जेकर  
ईसा: पालक पिता 791.10  
जोहर  
जोहर प्रथा 249.14  
रत्न 96.1  
रत्न आभा 98.3  
विरिष्टता 312.2  
जोहर प्रथा  
जोहर प्रथा 249.14 ⇨  
जोहरी  
आभूषण व्यापारी 586.11  
गुणक 305.34  
रत्न व्यापारी 586.13  
जोहरी बाजार  
रत्नहाट 586.12  
जो  
ज्ञानी 305.30  
विद्वान 319.8  
ज्ञप  
संज्ञापित 441.19  
ज्ञप्ति  
संज्ञापन 441.7  
संसूचना 441.6

ज्ञान  
अगुप्त 822.28  
उद्घाटित (रहस्य) 822.25  
ख्यात 847.3  
ज्ञात 305.29 ⇨  
रहस्यहीन 822.22  
संज्ञात 441.18  
सर्व संज्ञात 441.21  
ज्ञात इतिहास. पूर्व काल  
प्रागितिहासिक काल 76.4  
ज्ञात करना  
पूछना 333.19  
संज्ञापित करना 441.13  
ज्ञातकुल  
ज्ञातवश 727.37  
ज्ञातगोत्र  
ज्ञातवश 727.37  
ज्ञातता  
अगुप्तता 822.9  
प्रकटता 822.8  
रहस्यहीनता 822.4  
ज्ञात न होना  
ज्ञान न होना 306.10  
ज्ञात मात्रा  
ज्ञात मात्रा 946.7 ⇨  
ज्ञात राशि  
ज्ञात राशि 952.7 ⇨  
निश्चित संख्या 949.3  
ज्ञातवश  
ज्ञातवश 727.37 ⇨  
ज्ञातव्य  
ज्ञान योग्य 305.42  
ज्ञातव्यता  
ज्ञान योग्यता 305.21  
ज्ञात से अज्ञात की कल्पना  
अनुमान 308.8  
ज्ञात होना  
ज्ञान होना 305.23  
ज्ञाता  
ज्ञानी 305.30  
परिज्ञाता 305.33  
विद्वान 319.8  
ज्ञाता होना  
ज्ञान होना 305.23  
ज्ञाति  
गोत्र 729.1  
जाति 730.1  
वर्ण 731.2  
ज्ञातिपुत्र  
गोत्र जन 729.4  
महावीर 792.4  
ज्ञापुत्र  
अभिज्ञता 305.14  
ज्ञान  
अध्यात्म 761.1  
अनुभव 303.4  
अनुभूति 263.1  
ईश्वर: विभूति सूची 764.4

## ज्ञान

चेतना 263 4  
ज्ञान 305.1 ⇨  
परिज्ञान 305 13  
मोक्ष साधन सूची 257 4  
विद्या 318 1  
वेद 740 22  
सीख 332.6  
ज्ञान (दे.)  
बोध 301.9  
ज्ञान इच्छा  
जिज्ञासा 305.22  
ज्ञान कराना  
ज्ञान कराना 305 24 ⇨  
ज्ञानकर्म उभय इंद्रिय  
अंतरिन्द्रिय 268.4  
ज्ञानकोश  
ज्ञानकोश 446 10 ⇨  
ज्ञानगम्य  
ज्ञेय 305 38  
ज्ञानगम्यता  
ज्ञेयता 305 20  
ज्ञान गोचर  
ईश्वर 764 1  
ज्ञेय 305.38  
ज्ञान गोष्ठी  
अध्ययन गोष्ठी 694 6  
ज्ञान चक्षु  
ज्ञान चक्षु 305.2 ⇨  
ज्ञानज्येष्ठ  
महाज्ञानी 305 31  
ज्ञानदग्धदेह  
साधु संन्यासी 790 1  
ज्ञानदा  
सरस्वती 775.8  
ज्ञानदाता  
बोध प्रदाता 301 30  
ज्ञान दान  
शिक्षण 321 18  
ज्ञान दृष्टि  
ज्ञान चक्षु 305 2  
ज्ञान ध्यान  
ज्ञान ध्यान 755 1 ⇨  
ज्ञान न होना  
ज्ञान न होना 306.10 ⇨  
ज्ञाननिष्ठ  
अध्यात्मज्ञ 761.25  
ज्ञानपति  
ईश्वर 764 1  
गुरु 323 1  
ज्ञानपूर्ण  
ज्ञानपूर्ण 305 28 ⇨  
बोधप्रद 301.31  
ज्ञानपूर्ण होना  
ज्ञान होना 305 23  
ज्ञान प्रकाश  
ज्ञान प्रकाश 305.3 ⇨  
ज्ञानप्रद  
बोधप्रद 301.31

ज्ञानप्रभ  
बोधिसत्त्व सूची 793 16  
ज्ञान प्राप्ति  
बोध प्राप्ति 301.11  
ज्ञानबोध वृक्ष  
महाबोधि वट 13 18  
ज्ञान ब्रह्म  
निर्गुण ब्रह्म 764.28  
ज्ञानमणि  
महाज्ञानी 305.31  
ज्ञानमय  
अध्यात्मज्ञ 761 25  
ज्ञानपूर्ण 305.28  
निर्गुण ब्रह्म 764 28  
ज्ञानमूर्ति  
शिव 767 1  
ज्ञान या सत्य निराधार है  
शून्यवाद 760 25  
ज्ञानयुक्त  
चेतनायुक्त 263 12  
ज्ञानयोग  
अध्यात्म 761.1  
ज्ञानयोग 756 8 ⇨  
ज्ञान योग्य  
ज्ञान योग्य 305 42 ⇨  
ज्ञान योग्यता  
ज्ञान योग्यता 305.21 ⇨  
ज्ञानराज  
महाज्ञानी 305 31  
ज्ञानवान [ज्ञानवती]  
अध्यात्मज्ञ 761 25  
ज्ञानी 305 30  
विद्वान् 319 8  
ज्ञान विज्ञान  
विद्या 318 1  
ज्ञानवृद्ध  
प्रीवधी 301 25  
महाज्ञानी 305.31  
ज्ञानशील  
ज्ञानी 305 30  
ज्ञान संपन्न  
ज्ञानी 305.30  
ज्ञान साधन  
इंद्रिय 268.1  
ज्ञानहीन  
अज्ञ 306 16  
अज्ञानपूर्व 306.11  
ज्ञानहीनता  
अज्ञान 306 1  
ज्ञान होना  
ज्ञान होना 305.23 ⇨  
बोध होना 301 17  
ज्ञानाकार  
गीतम बुद्ध 793 1  
ज्ञानागम  
बोध प्राप्ति 301 11  
ज्ञानातीत  
अज्ञेय 306.13

ज्ञानातीतता  
अज्ञेयता 306.5  
ज्ञानार्जन  
अध्ययन 321.23  
शिक्षा अर्जन 321 22  
ज्ञानार्जित  
शिक्षार्जित 321.49  
ज्ञानार्थी  
जिज्ञासु 305.45  
ज्ञानालोक  
बोध प्राप्ति 301 11  
ज्ञानासन  
योग आसन सूची 756.19  
ज्ञानिकी  
सूचना विज्ञान 441.2  
ज्ञानी  
अध्यात्मज्ञ 761.25  
अनुभवी 303 17  
ऋषि 789 2  
ज्ञानी 305.30 ⇨  
ज्योतिषी 261.2  
धर्म ज्ञानी 742.20  
धर्म शिक्षक 742.21  
बोध प्राप्त 301 29  
मौलवी 744.24  
विद्वान् 319 8  
विद्वान् व्यक्ति 319.2  
वेदज्ञ 761 29  
साधु संन्यासी 790 1  
सिख धर्माधिकारी 744 46  
ज्ञानी (दे.)  
विद्य 318.4  
ज्ञानी जन  
विद्वत्समाज 319.4  
ज्ञानीत्व  
अभिज्ञता 305 14  
ज्ञानी ध्यानी  
ज्ञानी ध्यानी 755.8 ⇨  
ज्ञानी यानी  
साधु संन्यासी 790 1  
ज्ञानेंद्रिय  
ज्ञानेंद्रिय 268.5 ⇨  
मन 351 2  
ज्ञानेंद्रिय अनुबोधा  
अंतरिन्द्रिय 268.4  
ज्ञानेंद्रिय सूची  
ज्ञानेंद्रिय सूची 268.6 ⇨  
ज्ञानेच्छुक  
जिज्ञासु 305.45  
ज्ञानेषु  
जिज्ञासु 305.45  
ज्ञानेश्वर  
महाज्ञानी 305.31  
ज्ञानीवय  
बोध प्राप्ति 301.11  
ज्ञापक  
अभिव्यक्ति कर्ता 428.18  
संज्ञापक 441 20

ज्ञापन  
अभिव्यक्ति 428.1  
अशपथ घोषणा 339 22  
संज्ञापन 441.7  
ज्ञापन इच्छा  
संज्ञापनेच्छा 441.8  
ज्ञापन करना  
संज्ञापित करना 441.13  
ज्ञापनेच्छा  
संज्ञापनेच्छा 441.8  
ज्ञापयिता  
संज्ञापक 441 20  
ज्ञापित  
संज्ञापित 441 19  
ज्ञेय  
ज्ञेय 305.38 ⇨  
ज्ञेयता  
ज्ञेयता 305.20 ⇨  
ज्ञेयवाद  
ज्ञेयवाद 760.7 ⇨  
ज्या  
चापकर्ण 972 10  
धनुषः प्रत्येया 926 15  
पृथ्वी 9.1  
ज्यादती  
अत्यधिकता 944 2  
अत्याचार 835 3  
अधिकता 944.1  
मर्यादा उल्लंघन 809.2  
ज्यादा  
अतिरिक्त 945.4  
अधिक 944 5  
अधिकांशीय 939 14  
महंगा [महंगा] 664 34  
सुलभ 943.10  
ज्यादातर  
प्रायः 73.7  
ज्या पर चढ़ने वाला लंब  
चापलंब 972 11  
ज्यामिति  
अव्यक्त गणित 952.4  
ज्यामिति 956.1 ⇨  
ज्यामितिक  
ज्यामितिविद 956.2  
ज्यामितीय 956.8  
ज्यामितिविद  
ज्यामितिविद 956.2 ⇨  
ज्यामितीय  
ज्यामितीय 956.8 ⇨  
ज्यामितीय आकृति  
ज्यामितीय आकृति 969.1 ⇨  
ज्यामितीय प्रमेय  
ज्यामितीय प्रमेय 956.3 ⇨  
ज्यायस [ज्यायसी]  
वृद्ध [वृद्धा] 232.10  
ज्येष्ठ  
ईश्वर 764.1  
उत्तम 313.13

ज्योत् 43.9 ⇐  
 ज्योत् 229.25 ⇐  
 ब्रह्म 764.24  
 भारतीय मास सूची 43.6  
 रौंग 94.13  
 विष्णु 768.1  
 ज्योत् [ज्योत्सा]  
 अग्रज [अग्रजा] 723.8  
 ज्योत्सता  
 अग्रजता 723.7  
 ज्योत्स पुत्र  
 बड़ा पुत्र 718.8  
 ज्योत्स वर्ण  
 ब्राह्मण 731.13  
 ज्योत्स श्वसू  
 बड़ी साली 724.41  
 ज्योत्सा  
 दरिद्रा 775.6  
 नक्षत्र सूची 4.6  
 बड़ी बहन 723.10  
 मध्यमिका 150.17  
 ज्योत्साग्रम  
 गृहस्थ आग्रम 235.1  
 ज्योत्साग्रमी  
 गृहस्थ आग्रमी 235.11  
 ज्यो  
 जैसे 514.21  
 सादृश्य उक्ति सूची 309.28  
 ज्यो का स्थो  
 पूर्णतः समरूप 967.21  
 यथापूर्व 533.13  
 ज्यो स्थो  
 जैसे कैसे 514.22  
 ज्योत्साग्रम (अं)  
 भूगोल वेत्ता 10.2  
 ज्योत्साग्रमी (अं)  
 भूगोल विद्या 10.1  
 ज्योत्स  
 मंदिर दीपक 285.14  
 ज्योत्सन  
 आलोकन 285.2  
 ज्योत्सि  
 आकाश पिंड 3.1  
 दीपक ज्वाला 285.18  
 दीप्ति 287.16  
 दृष्टि 282.1  
 प्रकाश 287.1  
 प्राण तत्त्व 245.1  
 मेघ विद्युत् 55.9  
 ज्योत्सित  
 आलोकित 285.45  
 दीप्त 287.34  
 ज्योत्सिनी  
 उजली रात 48.4  
 ज्योत्सि पर्व  
 दीवाली 57.15  
 ज्योत्सि पिंड  
 तारा 3.2

ज्योत्सि बहाना  
 आलोक बहाना 285.41  
 ज्योत्सि मंडल  
 तेजोमंडल 839.7  
 ज्योत्सि मुकुट  
 प्रकाश मंडल 287.3  
 ज्योत्सिर्मय  
 शिव 767.1  
 ज्योत्सिर्मिति  
 प्रकाश मापिकी 285.32  
 ज्योत्सिलिंग  
 ज्योत्सिलिंग 746.18 ⇐  
 ब्रह्मांड 1.1  
 शिव 767.1  
 ज्योत्सिलिंग प्रादुर्भाव  
 शिवरात्रि 57.27  
 ज्योत्सिलिंग सूची  
 ज्योत्सिलिंग सूची 746.19 ⇐  
 ज्योत्सिर्विद  
 खगोल विज्ञानी 1.5  
 ज्योत्सिची 261.2  
 ज्योत्सिर्विद्या  
 खगोल विज्ञान 1.4  
 ज्योत्सिश्चक्र  
 ज्योत्सिश्चक्र 4.2 ⇐  
 राशिचक्र 4.4  
 ज्योत्सिश्च  
 खगोल विज्ञान 1.4  
 फलित ज्योत्सिश्च 261.1  
 वेदांग सूची 740.41  
 समय विज्ञान 41.8  
 ज्योत्सिश्च कर्म  
 प्रारब्ध कथन 261.3  
 ज्योत्सिश्च कर्म करना  
 प्रारब्ध बताना 261.41  
 ज्योत्सिश्च चक्र  
 ज्योत्सिश्चक्र 4.2  
 ज्योत्सिश्च प्रश्न  
 ज्योत्सिश्च प्रश्न 261.6 ⇐  
 ज्योत्सिश्च योग  
 ग्रहयोग 261.28  
 ज्योत्सिश्च विद्या  
 फलित ज्योत्सिश्च 261.1  
 ज्योत्सिश्च शास्त्र  
 खगोल विज्ञान 1.4  
 ज्योत्सिश्चिक  
 खगोल विज्ञानी 1.5  
 फलित ज्योत्सिश्चीय 261.42  
 ज्योत्सिश्चिक इकाई  
 अंतरिक्षीय एकक 959.29  
 ज्योत्सिश्चिक दूरी माप  
 अंतरिक्षीय दूरी माप 959.28  
 ज्योत्सिश्ची  
 खगोल विज्ञानी 1.5  
 ज्योत्सिश्ची 261.2 ⇐  
 प्रारब्ध वक्ता 261.43  
 ज्योत्सिश्ची (दे.)  
 हस्तरेखाविद 261.46

ज्योत्सिश्चीय  
 फलित ज्योत्सिश्चीय 261.42  
 ज्योत्सिश्चिक  
 आकाश पिंड 3.1  
 ज्योत्सिश्चिक देवता 772.20  
 तारा 3.2  
 ज्योत्सिश्चिक देवता  
 ज्योत्सिश्चिक देवता 772.20 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकती  
 पौराणिक नदी सूची 20.23  
 रात 48.1  
 ज्योत्सिश्चिकान  
 सूर्य 8.1  
 ज्योत्सिश्चिकाना  
 उजली रात 48.4  
 चंद्र कला सूची 8.4  
 चौदनी 287.6  
 दुर्गा 776.7  
 ज्योत्सिश्चिकानाभिसारिका  
 शुक्लाभिसारिका नायिका 456.20  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 सहभोज 183.4  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 ज्योत्सिश्चिकानार 416.24 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकानार (अं)  
 ज्योत्सिश्चिकानार 416.24  
 ज्योत्सिश्चिकानार (अं)  
 भूविज्ञानी 9.5  
 ज्योत्सिश्चिकानार (अं)  
 भूविज्ञान 9.4  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 फलित ज्योत्सिश्चीय 261.42  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 सहभोज 183.4  
 ज्योत्सिश्चिकानार बीक्स  
 ज्योत्सिश्चिकानार बीक्स 956.5 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 ज्योत्सिश्चिकानार 163.19 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकानार अनुभूति  
 ज्योत्सिश्चिकानार अनुभूति 163.20 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकानार कंपन  
 झुरझुरी 1039.13  
 ज्योत्सिश्चिकानार ताप  
 ज्योत्सिश्चिकानार ताप 163.21 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकानार मापक  
 ज्योत्सिश्चिकानार मापी 171.4  
 ज्योत्सिश्चिकानार मापी  
 ज्योत्सिश्चिकानार मापी 171.4  
 ज्योत्सिश्चिकानार मापी  
 ज्योत्सिश्चिकानार मापी 171.4 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकानार माप  
 ज्योत्सिश्चिकानार अनुभूति 163.20  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 अग्न्याधानित 107.13  
 आलोकित 285.45  
 स्पष्ट 822.20  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 ज्योत्सिश्चिकानार 333.12

ज्योत्सिश्चिकानार समस्या  
 ज्योत्सिश्चिकानार समस्या 333.12 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 अग्नि 106.1  
 उष्णता 104.1  
 दहन 108.1  
 ज्योत्सिश्चिकानार शील  
 दहनशील 108.14  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 अग्न्याधानित 107.13  
 आलोकित 285.45  
 ज्योत्सिश्चिकानार (अं)  
 अग्नित्र 107.5  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 अनाज सूची 187.8  
 जुआर 187.14  
 ज्योत्सिश्चिकानार 1040.26 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुख  
 नदी ज्योत्सिश्चिकानार मुख 21.23  
 ज्योत्सिश्चिकानार भाटा  
 उन्नति अवनति 532.3  
 ज्योत्सिश्चिकानार भाटा 1040.25 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकानार भाटा (दे.)  
 उन्धान पतन 1035.10  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 जुआर 187.14  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 नृसिंह नी रूप सूची 769.21  
 ज्योत्सिश्चिकानार माली  
 सूर्य 8.1  
 ज्योत्सिश्चिकानार  
 अग्नि ज्वाला 106.8  
 क्रांति विस्फोट 903.8  
 दीपक ज्वाला 285.18  
 ज्योत्सिश्चिकानार ज्वालाजिह्व  
 अग्नि 106.1  
 ज्योत्सिश्चिकानार ज्वालाध्वज  
 अग्नि 106.1  
 ज्योत्सिश्चिकानार ज्वाला बहना  
 अग्नि उदीप्त होना 107.11  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुख  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखी. मुँह 9.19  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखी  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखी पर्वत 9.18  
 दुर्गा 776.7  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखी पर्वत  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखी पर्वत 9.18 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखी: मुँह  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखी: मुँह 9.19 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखीय शील ब्रह्म  
 लावा 99.2  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखी: लावा  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखी: लावा 9.20 ⇐  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखी शिबर  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखी: मुँह 9.19  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखीयुक्त  
 ज्योत्सिश्चिकानार मुखीयुक्त 106.24 ⇐

## ज्वाली

ज्वाली  
शिव 767.1  
ज्वाली [ज्वालिनी]  
ज्वालायुक्त 106.24  
ज्वेल बीयरिंग  
ज्वेल बीयरिंग 1077.25 ⇨  
ज्वेल बीयरिंग (ऑ)  
ज्वेल बीयरिंग 1077.25  
ज्वेलर (ऑ)  
आभूषण व्यापारी 566.11

## झ

झंकार  
आभूषण ध्वनि 296 7  
खनखनाहट 297 8  
झंकार 296 9 ⇨  
झींझीं 298 2  
झंकारदार  
प्रतिध्वनिकारी 294.24  
झंकारना  
झंकृत होना 296.26  
झंकृत  
झंकृत 296.27 ⇨  
प्रतिध्वनित 294 23  
झंकृत होना  
झंकृत होना 296 26 ⇨  
झंकृता  
तारा देवी 774.39  
अखना  
झींकना 386 22  
झंरगाड  
कॉटेदार झाड़ी 12 21  
झींगा  
झंगला 583.13  
झींगुला  
अंगरखा 585.28  
झींगुलिया  
झंगला 583.13  
झंझट  
असुविधा 519 3  
खटराग 747.4  
परेशानी 519.4  
विघ्न 1047.12  
झंझटी  
कलहप्रिय 708 13  
तकरारी 708 14  
झंझर  
सुराही 679.15  
झंझरा [झंझरी]  
छिद्रिल 271 24  
झंझरी  
अंगीठी 109.5  
झंझरी  
छलनी 560.21  
झंझरी  
जाकरी 605.3  
जाल रंध्र 572.19

झंझरीदार  
जालीदार 572.21  
झंझरा  
आँधी 85.5  
आँधी पानी 85.7  
तीव्र वर्षा 54 11  
विलम्ब वस्तु 863 2  
झंझानिल  
आँधी पानी 85 7  
झंझा मरुत  
आँधी पानी 85 7  
झंझार  
अग्नि ज्वाला 106.8  
झंझावात  
आँधी पानी 85 7  
क्रांति विस्फोट 903 8  
झंझावात मेघ  
झंझावात मेघ 55.4 ⇨  
झंझावारी  
प्रबल 487.24  
झंझोक  
झकझोर 1037 10  
झंझोकना  
झकझोरना 1037 16  
झंझोका  
झकझोर 1037 10  
झटकाव 169 3  
झंड  
ज मजात केश 137.2  
झंडा  
झंडा 5 2 2  
ध्वजा 408 4  
झंडा उठाना  
आंदोलन करना 902.22  
झंडा खड़ा करना  
आंदोलन करना 902.22  
झंडा गाड़ना  
आधिपत्य करना 899.19  
कीर्तिमान स्थापित करना 512.4  
जीतना 912.12  
झंडागीर  
नेता 346 2  
झंडागीरी  
नेतृत्व 346.1  
झंडा जहाज़  
प्रलेगशिप (ऑ) 1072 48  
झंडा झुकाई  
ध्वजा नमन 1060.24  
झंडा दिखाना  
उद्घाटन करना 693.6  
झंडा फहराना  
ध्वजारोहण करना 408.16  
झंडा बरदार  
ध्वजा वाहक 408.18  
पक्षधर 885.33  
झंडा बरवारी  
ध्वजा वहन 408.8  
पक्षधरता 885.1

झंझाभिनंदन  
ध्वजा अभिवादन 1060.20  
झंझाभिवादन  
ध्वजा अभिवादन 1060.20  
झंडा ले कर चलना  
ध्वजा वहन करना 408.15  
झंडा सलामी  
ध्वजा अभिवादन 1060.20  
झंडी  
आरंभ संकेत सूची 521.8  
ध्वजा 408.4  
बंदनवार 1059.8  
झंझू  
गेदा 14 14  
झंझूला  
जन्मजात केश 137 2  
सघन पल्लव वृक्ष 111.25  
झंझे की गीठ  
आधी गीठ 572 2  
झंझे तले की दोस्ती  
मार्ग परिचितता 704.12  
झंझे तले होना  
मतानुगामी होना 345.5  
झंझे पर चढ़ाना  
निंदा करना 843 14  
झंप  
उछल 1030.8  
कूद 1086.3  
छल्लोग 1066 10  
लंघन 1097.7  
झंपकना  
मिचकाना 120.6  
झंपन  
उछलन 1030 9  
झंपन  
मुकुलन 120 1  
झंपना  
कूदना 1086.17  
छल्लोगना 1086.18  
झंपट्टा मारना 914.15  
लौघना 1097.12  
झंपरी  
पालकी परदा 605.14  
झंपा [झंपी]  
मिचका [मिचकी] 120.10  
मुकुलित 120.8  
झंपाक  
बंदर 127.86  
झंपाकी  
मादा बंदर 127.87  
झंपान  
पहाड़ी डोली 1071.22  
झंपानी  
पालकी वाहक 1082.21  
झंपिया  
पिटारी 677.13  
झंपी  
बंदर 127 86

झंपोला  
पिटारा 677 12  
झंभ  
गुच्छा 686.17  
समूह 690 1  
झंभराना  
क्षीणकाय होना 159 7  
म्तान होना 120 7  
झंभाना  
आग बुझाना 108 12  
म्तान होना 120 7  
झंसना  
धीरे धीरे मालिश करना 225 38  
झक  
उज्ज्वल 218 37  
उन्माद 354 4  
खटा 353 11  
घमकदार 287 36  
बड़बड़ाहट 428 8  
झकझक  
तकरार 708 7  
झकझकिया  
तकरारी 708.14  
झकझोर  
झकझोर 1037 10 ⇨  
झोका 85 12  
झकझोरना  
झकझोरना 1037.16 ⇨  
झटकारना 668.22  
झकझोरा  
झकझोर 1037 10  
झटकाव 169 3  
झोका 85.12  
झकझोरा देना  
झकझोरना 1037 16  
झकझोलना  
झकझोरना 1037 16  
झटकारना 668.22  
झकना  
तकरार करना 708 11  
बकवास करना 428.14  
बड़बड़ाना 428 15  
लालसा करना 359.14  
झक सफ़ेद  
अति श्वेत 289.87  
झकाझक  
घमकदार 287.36  
दीप्त 287.34  
झकुलना  
तरंगित होना 1040.29  
झकोर  
झकझोर 1037 10  
झकोरना  
झकझोरना 1037.16  
झकोरा  
झकझोर 1037 10  
झॉका 85.12  
मद झूम 211.2



हथकोला 1037.11  
**झकोल**  
 झकझोर 1037 10  
 फेटाई 195 13  
**झकोला**  
 झकझोर 1037.10  
 झोंका 85.12  
 प्रवाह 1041 1  
 मद झूम 211.2  
**झकोले लेना**  
 तरंगित होना 1040.29  
**झक्क**  
 खूब 353.11  
**झक्कड़**  
 ओंधी धूल 85.6  
**झक्की**  
 तकरारी 708.14  
 प्रलापी 428 24  
 बकवासी 428 26  
**झक्खना**  
 झींकना 386 22  
**झख**  
 झींक 386 8  
 मछली 125.1  
**झख मार कर**  
 विवशतः 901 13  
**झख मारना**  
 विवश होना 901 7  
**झगड़ना**  
 कलह करना 708.9  
 तकरार करना 708 11  
**झगड़ा**  
 एकता भंग 699 2  
 कलह 708.1  
 खटाराग 747 4  
 मित्रता विस्थापना 705 16  
**झगड़ा (दे. कलह)**  
 विवाद 324.1  
**झगड़ा करवाना**  
 कलह करवाना 708.10  
**झगड़ा झमेला**  
 कलह 708 1  
 तकरार 708.7  
**झगड़ा टंटा**  
 उपद्रव 903 1  
 कलह 708 1  
**झगड़ा झपाव**  
 उपद्रव 903.1  
**झगड़ाकू**  
 उपद्रवकारी 903.17  
 कलहप्रिय 708.13  
 गुटबाज़ 885.39  
 तकरारी 708.14  
**झगड़ा समाधि**  
 विवाद समाधान 877.4  
**झगकी**  
 कर्करा 838.11

**झगड़े झमेले में पड़ना**  
 संकट में पड़ना 909.11  
**झगला**  
 झगला 583.13 ⇨  
**झगा**  
 अँगरखा 585.28  
 झगला 583 13  
**झगुली**  
 अँगरखा 585 28  
**झज्जर**  
 सुराही 679 15  
**झझकार**  
 दुतकार 855.5  
**झझकारना**  
 दुतकारना 855.9  
**झट**  
 शीघ्रतः 496 13  
**झटक**  
 झटकार 668 9  
**झटकन**  
 झटकार 668 9  
**झटकना**  
 छीनना 635 13  
 झटकारना 668.22  
 ठगना 864 49  
 निचोड़ना 220 36  
**झटक मटक**  
 तुमक 1084 8  
**झटका**  
 आघात 169 2  
 एक धाव 484 2  
 घनका 392 11  
 झटका 206 44 ⇨  
 झटका मांस 206 16  
 झटकार 668 9  
 तुमका 1084 9  
 दघका 1051 18  
 मनोघात 354 3  
 हथकोला 1037 11  
 हानि 646.7  
**झटकाई**  
 झटकार 668 9  
 निचुकाई 220 14  
**झटका मटका**  
 तुमका 1084.9  
**झटका मांस**  
 झटका मांस 206.16 ⇨  
**झटकार**  
 झकझोर 1037.10  
 झटकार 668.9 ⇨  
**झटकारना**  
 झकझोरना 1037 18  
 झटकारना 668.22 ⇨  
**झटकाव**  
 झटकार 668.9  
 झटकाव 169.3 ⇨  
**झटके**  
 झटकाव 189.3

**झटपट**  
 शीघ्रतः 496 13  
**झटा**  
 शीघ्रता 496 1  
**झटाक पटाक**  
 शीघ्रतः 496.13  
**झटि**  
 झाड़ी 12 20  
**झटित वर्षा**  
 झटित वर्षा 54.10 ⇨  
**झड़**  
 क्षणिक वर्षा 54.8  
**झड़**  
 झड़ 597.14 ⇨  
 मूसला 609 22  
**झड़झकाना**  
 झकझोरना 1037 16  
 झटकारना 668.22  
**झड़ता [झड़ती]**  
 निर्झरणाशील 21 38  
**झड़न**  
 खुरचा पदार्थ 542 8  
 झड़न 1032 7 ⇨  
**झड़ना**  
 झड़ना 1032.21 ⇨  
 निर्झरित होना 21 29  
 पल्लव गिरना 117 16  
 वर्षा होना 54 17  
**झड़प**  
 तकरार 708 7  
 मुठभेड़ 915 2  
**झड़पना**  
 तकरार करना 708 11  
**झड़पाझड़पी**  
 गुत्थमगुत्थी 905 19  
**झड़बेरी**  
 बेरी 190 29  
**झड़ा [झड़ी]**  
 झड़ा [झड़ी] 218 34 ⇨  
 निर्झरित 21 37  
**झड़ाई**  
 गाहनी 548 20  
**झड़ाई**  
 झड़ाई 218 6 ⇨  
 निचुकाई 220 14  
**झड़ाई पैंछाई**  
 झाड़ पोंछ 218 5  
**झड़ाका**  
 हथकोला 1037 11  
**झड़ाझड़**  
 अविश्रामतः 1049 16  
**झड़ाझकी**  
 अनवरत वर्षा 54 7  
 अविश्रामता 1049 1  
**झड़ी**  
 अनवरत वर्षा 54.7  
**झड़ी**  
 अविश्रामता 1049.1

**झकी**  
 तीव्र वर्षा 54.11  
**झकी**  
 प्रधार 1032 8  
 वर्षा 54 5  
**झकीदार**  
 अनवरत (वर्षा) 54 24  
**झकी: ध्वनि**  
 झरझराहट 297 20  
**झकी लगना**  
 धार बँधना 1032.23  
 विराम न होना 1049 6  
**झन**  
 झकार 296 9  
**झनक**  
 इतराहट 860 5  
 झकार 296 9  
**झनकना**  
 झकृत होना 296 26  
 झल्लाना 373 24  
**झनकार**  
 झकार 296 9  
 प्रतिध्वनि 294.4  
**झनझन**  
 झकार 296 9  
 झार्यँझार्यँ 297 21  
 झींझीं 298 2  
**झनझनाता [झनझनाती]**  
 झकृत 296 27  
**झनझनाना**  
 झकृत होना 296 26  
 प्रतिध्वनि होना 294 14  
**झनझनाहट**  
 झकार 296 9  
 झुनझुनी 1039 12  
**झनन**  
 झकार 296 9  
**झनाझन**  
 झकृत 296 27  
**झनेना**  
 धोतर 580 27  
**झनेना [झनेनी]**  
 असघन बुना 576 31  
**झनेनापन**  
 असघन बुनावट 576 14  
**झनेना वस्त्र**  
 झनेना वस्त्र 579.6 ⇨  
**झन**  
 झकार 296 9  
**झनाटा**  
 झकार 296 9  
 फर्राटा 1084 13  
 सटसटाहट 297 38  
**झनाटे से**  
 शीघ्रतः 496 13  
**झपक**  
 झपकी 266.7  
 निमिष 50.13

## झपकन

मुकुलन 120 1  
झपकन  
मुकुलन 120 1  
झपकना  
झपट्टा मारना 914 15  
मिचकाना 120 6  
झपकाई  
अँख मारना कर्म 284 7  
झपकी  
झपकी 266 7 ⇨  
मद पीनक 211 3  
झपकी आना  
सोना 266 11  
झपझप  
मिचकन 120 2  
झपटना  
झपट्टा मारना 914 15  
झपटाव  
झपट्टा 914 10  
झपट्टू  
झपट्टामार 914 22  
झपट्टा  
छीन 635 7  
झपट्टा 914 10 ⇨  
दबोच 868 6  
झपट्टामार  
झपट्टामार 914 22 ⇨  
झपट्टा मारना  
झपट्टा मारना 914 15 ⇨  
झपताल  
झपताल 458 47 ⇨  
झपा [झपी]  
मुकुलित 120 8  
झपाटा  
झपट्टा 914 10  
दोझकी 484 1  
शीघ्रता 496 1  
झपाटा मारना  
झपट्टा मारना 914 15  
झपाटे से  
शीघ्रत 496 13  
झपाना  
मिचकाना 120 6  
झपिया  
पिटारी 677 13  
झपेटना  
झपट्टा मारना 914 15  
दबोचना 868 31  
झपेटा  
छापा 914 8  
झपट्टा 914 10  
तमाचा 918 16  
झपोला  
पिटारा 677 12  
झप्यक  
तमाचा 918 16  
झप्यान  
पहाडी डोली 1071 22

1018

झप्यानी  
पालकी वाहक 1082.21  
झबरा [झबरी]  
झबरीला 137 26  
रोएँदार 569 31  
झबरीला  
झबरीला 137 26 ⇨  
झबरीला [झबरीली]  
झबरीला 137 26  
रोएँदार 569.31  
झबरेरा [झबरेरी]  
रोएँदार 569 31  
झबला  
झगला 583 13  
टोकरा 677 1  
झबली  
टोकरी 677 5  
झबल  
लीवर 1062 3  
झब्बा  
गुच्छा 686 17  
गुफ्या 975.5  
कुंदना 569 2  
मोती लडी गुच्छा 228 39  
झब्बेदार  
गुफेदार 975 27  
झम  
उचल 1030 8  
कूद 1086 3  
छलौंग 1086 10  
झमक  
इतराहट 860 5  
झमकना  
इतराना 860 15  
घचलता दिखाना 860 16  
नाचना 462 26  
प्रसारित होना 979 10  
सहसा आना 1093 8  
झमकाहट  
झमझमाहट 297 19  
झमकारा  
झटित वर्षा 54.10  
झमझम  
झमझमाहट 297 19  
झमझमाहट 297 19 ⇨  
झम से  
अकस्मात 69 13  
झमाका  
इतराहट 860 5  
झमझमाहट 297 19  
नाज नखरा 860 1  
झमाझम  
अत्यलंकृत 227 6  
झमैला  
खटराग 747.4  
झमैलिया  
कलहप्रिय 708 13

तकरारी 708.14  
झर  
निर्झर 21 8  
प्रधार 1032 8  
झरझर  
झरझराहट 297 20  
झरझराना  
निर्झरित होना 21 29  
झरझराहट  
झरझराहट 297.20 ⇨  
झरता [झरती]  
निर्झरणाशील 21 38  
झरन  
झरन 1032 7  
झरना  
उत्स्रोत 21 1  
छलना 560 20  
धार गिरना 1032 22  
निर्झर 21.8  
निर्झरित होना 21 29  
पीना 681 12  
पीनी 681 11  
झरनी  
फाउनटेन पैन 416 16  
झरहराना  
पल्लव गिरना 117.16  
झरा [झरी]  
निर्झरित 21 37  
झरोखा  
गवाक्ष 608 15  
छज्जा 611 27  
झर्झर  
डुगाडुगी 461 42  
निर्झर 21.8  
झर्झरा  
तारा देवी 774 39  
झर्झरी  
झरझराहट 297 20  
झौझ 461 37  
पैजनी 228 19  
शिव 767 1  
झल  
घरपरापन 278 1  
झल्लाहट 373 10  
दहन 108 1  
लालसा 359 5  
झलक  
ईश्वर दर्शन 749 36  
पुट 1008.6  
पूर्व झलक 520 12  
रग झलक 289 4  
सादृश्य आभास 309.4  
झलकता [झलकती]  
सादृश्याभासित 309.21  
झलक दिखाना  
दर्शन देना 749.49  
झलकना  
दर्शन देना 749 49

सादृश्य आभास होना 309 12  
झलक मारना  
सादृश्य आभास होना 309 12  
झलकाना  
उज्ज्वल करना 218.32  
दर्शन देना 749 49  
झलकी  
ईश्वर दर्शन 749 36  
दृश्य वर्णन 449 5  
पूर्व झलक 520 12  
झलज्जला  
अनवरत वर्षा 54 7  
झरझराहट 297 20  
झलझलाना  
आलोकित होना 285.38  
झल्लाना 373 24  
झलझलाहट  
घरपरापन 278.1  
धिरमिराहट 104 2  
झलना  
झलाई करना 565.22  
झलमल  
अस्थिर 1037 22  
झलमला  
कोध 287 20  
झलमलाहट  
झिलमिलाहट 287 24  
झलरी  
गलकंबल 134 14  
झौझ 461 37  
झला  
कोध 287.20  
झला [झली]  
झला [झली] 565 25 ⇨  
झलाई  
झलाई 565.4 ⇨  
झलाई उपकरण  
झलाई उपकरण 565.5 ⇨  
झलाई करना  
झलाई करना 565.22 ⇨  
झलाईगर  
झलाईगर 565.26 ⇨  
झलाई यंत्र  
झलाई यंत्र 565.6 ⇨  
झलाझल  
घमकदार 287.36  
झलाबोर  
गुलकारी 577.15  
घमकदार 287.36  
झलामल  
घमक दमक 287.23  
झिलमिलाहट 287 24  
झल्लकी  
करताल 461.25  
झौझ 461.37  
झल्लरी  
धुंधराले केश 137.13  
झौझ 461.37

**झल्ला**  
बड़ा टोकरा 677 3  
**झल्ला [झल्ली]**  
अप्रवीण 304 9  
कोधी 373.29  
**झल्लाना**  
झल्लाना 373 24 ⇨  
**झल्लाहट**  
झल्लाहट 373.10 ⇨  
**झल्लिका**  
कोध 287.20  
झिल्ली 990 26  
**झल्ली**  
टोकरा 677 1  
बड़ा टोकरा 677 3  
**झल्लीगीरी**  
कुलीगीरी 1061 3  
**झल्लीदार**  
कुली 1061 4  
**झल्ली वाला**  
कुली 1061.4  
**झष**  
मछली 125 1  
**झषकेतु**  
कामदेव 773 12  
**झषराज**  
घडियाल 123 5  
**झषोदरी**  
सत्यवती 771 95  
**झौ**  
झौई माई 476 11  
झौक 284 13  
**झौई**  
छल 827 7  
छाया 286 5  
**झौई बलाना**  
छल करना 827 14  
**झौई माई**  
झौई माई 476.11 ⇨  
**झौक**  
झौक 284.13 ⇨  
**झौकनी**  
ईश्वर दर्शन 749 36  
कूप 19.3  
**झौकर**  
कॉटेदार झाड़ी 12.21  
**झौका**  
गवाक्ष 608.15  
**झौकी**  
ईश्वर दर्शन 749.36  
ट्रेलर 472.8  
दृश्य वर्णन 449.5  
परिकल्पना 520.5  
पीपहोल 808.18  
पूर्व झलक 520.12  
मनोरंजक दृश्य 312.7  
वृत्तांत 449.14

**झौकी दिखलाना**  
दर्शन देना 749.49  
**झौखर**  
कॉटेदार झाड़ी 12 21  
**झौगला [झौगली]**  
दीला [परिधान] 583 26  
**झौझ**  
झौझ 461.37 ⇨  
नटखट कृत्य 860 11  
पैजनी 228 19  
भोंग मद 210 3  
मेंजीरा 461 70  
हठ 349 4  
**झौझन**  
पैजनी 228 19  
**झौझरी**  
झौझ 461 37  
भोंग मद 210 3  
**झौझा**  
असुविधा 519 3  
खटराग 747 4  
पीना 681 12  
भोंग मद 210.3  
**झौप**  
उछल कूद 1086 1  
चिह्न 605 11  
झौप 675 10 ⇨  
टब 1076 14  
बॉस बेत. टोकरा 677 4  
सनशेड 611 26  
**झौपना**  
आच्छादित करना 592.8  
**झौपी**  
झपकी 266 7  
झौप 675.10  
टोकरा 677 5  
पिटारी 677 13  
भुजंगा 126.61  
**झौपझौप**  
कर्करा सौदेबाज़ी 658.7  
तकरार 708 7  
**झौवर**  
खादर 552.5  
छिछला गद्दा 15.3  
**झौबली**  
सादृश्य आभास 309.4  
**झौवी**  
झौवा 221.14  
**झौवा**  
झौवा 221.14 ⇨  
**झौसना**  
चकमा देना 819.14  
**झौसा**  
चकमा 819 9  
**झौसा देना**  
चकमा देना 819.14  
**झौसा पट्टी**  
चकमेबाज़ी 819.10

**झौसी की रानी**  
वीर स्त्री. उपमान 396.4  
**झौसेबाज़**  
चकमेबाज़ 819.18  
**झौसेबाज़ी**  
चकमेबाज़ी 819.10  
**झाग**  
फेन 88 15  
**झाग आना**  
फेन बनना 88.18  
**झाग उठना**  
फेन बनना 88 18  
**झागदार**  
फेनिल 88.26  
**झाझर**  
सुराही 679.15  
**झाड़**  
अभिमंत्रण 758.6  
आतिशबाज़ी सूची 56 6  
झड़ाई 218 6  
झाड़ 111.16 ⇨  
झाड़ फ़ानूस 285 22  
डॉट 373 11  
भूत निवारण 759.8  
मंत्र द्वारा विष हरण 177.8  
वृक्ष 111 18  
**झाड़ झंखाड़**  
रही 526 13  
**झाड़ना**  
झाड़ना 218 15 ⇨  
**झाड़ना**  
अभिमंत्रण करना 758 33  
अ मेमान प्रदर्शन करना 858.6  
घींनना 635 13  
झटकारना 668.22  
झाड़ना 218 29 ⇨  
डॉटना 373.25  
निघोचना 220.36  
भूत उतारना 759 18  
**झाड़ना पौछना**  
झाड़ना पौछना 218.28 ⇨  
**झाड़ना फूंकना**  
भूत उतारना 759 18  
**झाड़ना बुहारना**  
झाड़ना पौछना 218.28  
**झाड़ पिलाना**  
डॉटना 373.25  
**झाड़ पौछ**  
.झाड़ पौछ 218.5 ⇨  
**झाड़ फटकार**  
डॉट 373.11  
**झाड़ फ़ानूस**  
झाड़ फ़ानूस 285.22 ⇨  
**झाड़ फूंक**  
भूत निवारण 759.8  
मंत्र द्वारा विष हरण 177.8  
**झाड़ फूंक करना**  
भूत उतारना 759.18

**झाड़ बुहार**  
झाड़ पौछ 218.5  
**झाड़ लगाना**  
डॉटना 373.25  
**झाड़ सभूह**  
झाड़ी 12 20  
**झाड़ा**  
झाड़ा तलाशी 336 15  
भूत निवारण 759 8  
मंत्र द्वारा विष हरण 177 8  
**झाड़ा तलाशी**  
झाड़ा तलाशी 336.15 ⇨  
**झाड़ी**  
झाड़ी 12.20 ⇨  
**झाड़ी (दे.)**  
झाड़ 111 16  
**झाड़ू**  
झाड़ू 218 17 ⇨  
**झाड़ू कर्म**  
झाड़ू कर्म 218.7 ⇨  
**झाड़ूकरा**  
बुहारने वाला 218.40  
**झाड़ू देना**  
बुहारना 218 31  
**झाड़ू बरवार**  
बुहारने वाला 218.40  
**झाड़ू बुहारू**  
झाड़ू पौछ 218 5  
**झाड़ू लगाना**  
बुहारना 218.31  
**झाड़ूवाच (शब्दार्थ)**  
फ़ाशीवाद 884 35  
**झापड़**  
तनाचा 918 16  
**झाब**  
खादर 552 5  
दलदल 25 28  
निम्न तट सूची 25.24  
**झाबा**  
कुप्पा 678.7  
गुफ़का 975 5  
चपटा टोकरा 677.2  
झाड़ 111 18  
टोकरा 677 1  
मछली जाल सूची 1013.14  
मुरगी टोकरा 555.6  
**झाबी**  
टोकरा 677.5  
**झाम**  
छल 827.7  
झाम 681.8 ⇨  
झुंजर 559.21  
**झामक**  
झौवा 221.14  
**झार्यझार्य**  
झार्यझार्य 297.21 ⇨  
**झारखंड पर्वत माला**  
भारत उपमहाद्वीप: पर्वत सूची 17.1

## झारा

### झारा

- निर्झर 21 8
- भाजी रसा 201 24
- सिचन. फुहारा 1032 12
- सूप 201.22

### झारी

झारी 679 19 ⇨

### झार्जर

ढोल ढोलकी वादक 461 47

### झाल

- अग्नि ज्वाला 106 8
- अनवरत वर्षा 54 7
- घरपरपान 278 1
- झलाई 565 4
- झॉझ 461 37
- लहर 1040 17

### झालना

झलाई करना 565 22

### झालने वाला

झलाईगर 565 26

### झालर

- गलकंबल 134 14
- घंटा 461.27
- छप्पर. किनारा 615.2
- झालर 571.39 ⇨
- प्रालव सूची 1024.4

### झाला

- तीव्र लहर 1040 21
- लहर माला 1040.23

### झाला (सितारा)

आरोह अवरोह क्रम 458.2

### झावा

- चपटा टोकरा 677 2
- पिटारा 677 12

### झिंगा

झींगा 124.17

### झिंगिनी

विगारी 106.11

### झिझी

झींगुर 122 24

### झिझोकना

झकझोरना 1037 16

### झिझोका

झकझोर 1037 10

### झिझोटी

राग रागिनी सूची 457 24

### झिकझिक

तकरार 708 7

### झिकझिक करना

तकरार करना 708.11

### झिकझिकिया

तकरारी 708 14

### झिझक

- लज्जशीलता 845.2
- संकोच 845.5
- हिचक 501 3

### झिझकना

लज्जित होना 845.6

संकोच करना 845.9

हिचकना 501 6

### झिझकार

डॉट 373 11

### झिझकू

हिचकशील 501 10

### झिझकना

डॉटना 373 25

### झिझकी

डॉट 373 11

### झिनझिन

झींझीं 298.2

### झिरझिर

मंदत 1045 15

### झिरझिरा [झिरझिरी]

असघन बुना 576 31

### झिरिका

झींगुर 122 24

### झिरी

कलम जीभ चीरा 416.5

झिरी 271.16 ⇨

तुषार पात 90.9

### झिरीं

झिरी 271.16

विदर 544.4

### झिलंगा [झिलंगी]

ढीला [परिधान] 583.26

### झिलझिलाना

झिलमिलाना 287 31

### झिलझिलाहट

झिलमिलाहट 287.24

### झिलना

सहन हो पाना 872 8

### झिलम

लौह शिर कवच 921 6

### झिलमिल

असघन. बुना 576 31

कुदूरय 282 21

जालीदार 572 21

तितली. प्युपा 242.5

### झिलमिल करना

झिलमिलाना 287 31

### झिलमिला [झिलमिली]

असघन बुना 576 31

### झिलमिलाना

झिलमिलाना 287 31 ⇨

### झिलमिलाहट

कुदूरयता 282 11

झिलमिलाहट 287.24 ⇨

### झिलमिली

चिन्न 605.11

पिलमन 605 12

तितली. प्युपा 242 5

वैनेशियन ब्लाईंड 605.13

### झिलसनी

प्रहार सहन कर्ता 920.16

लौह शिर कवच 921 6

### झिल्लित

झिल्लीदार 990.33

### झिल्ली

खीसा 672.5

झिल्ली 990.26 ⇨

झींगुर 122.24

त्वचा झिल्ली 134.2

### झिल्लीदार

झिल्लीदार 990.33 ⇨

### झींक

झींक 386.8 ⇨

### झींकना

झींकना 386.22 ⇨

### झींख

झींक 686.8

### झींगर

झींगुर 122.24

### झींगा

झींगा 124.17 ⇨

### झींगुर

कोट सूची 122 12

### झींगुर

झींगुर 122.24 ⇨

### झींझीं

झींझीं 298.2 ⇨

### झींवर

नाविक 1080 21

मत्स्य आखेटक 252 16

### झींसी

क्षीण वर्षा 54.9

फुहार 1032 9

### झीखना

झींकना 386.22

### झीना [झीनी]

असघन बुना 576.31

छिद्रिल 271.24

### झीनापन

असघन बुनावट 576 14

### झील

घिरी खाड़ी 24 7

झील 18.4 ⇨

प्राकृतिक जलाशय 18.5

### झुंकाई

झोंक 688 10

### झुंजलाना

खीजना 373 18

झल्लाना 373 24

### झुंजलाया [झुंजलाई]

खीजा [खीजी] 373.31

### झुंजलाहट

खीज 373.4

झल्लाहट 373 10

### झुंट

गुल्म 111.15

झाड़ 111.16

झाड़ी 12.20

### झुंड

झाड़ी 12.20

दल 691 1

पशु समूह 680.9

समूह 690.1

### झुकन

अवनमन 1025.3

ढलान 989 2

नतोदरता 989.1

नमन 1060.4

### झुकना

अत्याचार सहना 835 7

अनुकूल होना 885.23

अभिरुधि होना 400.9

अवनमित होना 1025.6

दबकना 989.7

धरा जाना 1019.9

नतोदर होना 989 6

पक्षपात करना 885.21

युद्ध समर्पण करना 916 17

### झुका [झुकी]

अतिभारग्रस्त 963.15

अवनमित 1025 8

असमभार 963.17

कोणयुक्त 970 12

नतमस्तक 733.21

नतोदर 989.9

फलित 118.16

### झुकाई

अधोक्षेपण 1052.12

### झुकान

अवनमन 1025.3

### झुकाना

दमन करना 911 8

धरना 1019 10

मनाना 374.13

मरोडना 975.22

वक्र करना 974.14

### झुकानपन

नतमस्तकता 733.10

भारग्रस्तता 963.6

### झुकाव

अभिरुधि 400.2

अवनमितता 1025.4

कोण 970.1

ढलान 989.2

### झुका होना

अवनमित होना 1025.6

### झुकी नोक: तलवार

कृपाण 924.1

### झुगी

कुटी 602.1

### झुगी झोंपड़ी

गंदी बस्ती 619.2

### झुटपुटा

दिन-रात: संधि काल 47.15

धुंधलका 286.4

सायंकाल 47.13

सायंकालीन अर्धप्रकाश 287.12

**झुठलाना**  
असत्य सिद्ध करना 821 13

**झुठाई**  
असत्यता 821 2

**झुठालना**  
असत्य सिद्ध करना 821 13  
उच्छिष्ट करना 198 10

**झुनझुन**  
झंकार 296 9

**झुनझुना**  
झुनझुना 480 11 ⇨

**झुनझुनाना**  
झंकार होना 296 2b

**झुनझुनाहट**  
झंकार 296 9

**झुनझुनियी**  
झुनझुना 480 11

**झुनझुनी**  
झुनझुनी 1039 12 ⇨

**झुमका**  
कर्ण कुडल 228 9  
झुमका 228 13 ⇨  
प्रालंब सूची 1024 4

**झुरकुट**  
क्षीणकाय 159 13  
बुरादा 938 31

**झुरझुराहट**  
भय कपन 395 2

**झुरझुरी**  
झुरझुरी 1039 13 ⇨  
भय कपन 395 2

**झुरमुट**  
वृक्ष कुज 12 18  
समूह 690 1

**झुरहरी**  
झुरझुरी 1039 13

**झुराना**  
म्लान होना 120 7  
सूखने से भार कम होना 963 10

**झुरावन**  
शुष्क भार ह्रास 963 8

**झुरावना**  
सूखने से भार कम होना 963 10

**झुरी**  
झुरी 134 11 ⇨  
शिकन 975 7

**झुरीदार**  
शिकनदार 975 28

**झुलना**  
झूला 1034 3  
ढीला जनाना कुरता 585 36

**झुलनी**  
प्रालंब सूची 1024 4

**झुलस**  
झुलस 167.7 ⇨

**झुलसला [झुलसती]**  
अति उष्ण 104.20

**झुलसाई**  
झुलस 167 7

**झुलाने वाला**  
झुलाने वाला 1034 23 ⇨

**झुलीआ**  
झुलने वाला 1034 22  
झूला 1034 3  
ढीला जनाना कुरता 585 36

**झुलीवा**  
झुलने वाला 1034 22

**झुंझल**  
खीज 373 4  
झल्लाहट 373 10

**झूटा**  
जटा 131 7  
झोटा 1034 2

**झूठ**  
असत्य 821 1  
असत्यत 821 23  
असत्यता 821 2  
गप 440 7

**झूठ बोलना**  
असत्य कहना 821 14

**झूठमूठ**  
असत्यत 821 23

**झूठा [झूठी]**  
अवास्तविक 821 20  
अविशुद्ध 219 8  
असत्यतापूर्ण 821 16  
असत्यवादी 821 17  
कूटकृत 98 14  
खोटा [खोटी] 98 13  
छद्मपूर्ण 824 27  
तथ्यहीन 821 22  
दिखावटी 825 5  
बहानेबाज 495 15

**झूठा आरोप**  
मिथ्या आरोप 875 10

**झूठा गवाह**  
मिथ्या साक्षी 876 19

**झूठा दिलासा**  
मिथ्या सात्वना 393 6

**झूठा प्रशंसक**  
व्याज प्रशंसक 841 32

**झूठा बनाना**  
असत्य सिद्ध करना 821 13

**झूठा सनाचार**  
गप 440 7

**झूठा होना**  
असत्य होना 821 12

**झूठी आशा**  
दुराशा 375 2  
मिथ्या आशा 375 4

**झूठी खबर**  
गप 440 7

**झूठी धमकी**  
भबकी 373 13

**झूठी बात**  
असत्य वचन 821 3

**झूठे**  
असत्यत 821 23

**झूठो**  
दिखावटी तौर पर 825 7

**झूम**  
गजगामिता 1084 4  
तद्रा 266 8.  
नर्तन 462 12  
मद झूम 211 2

**झूमझनन**  
झंकार 296 9

**झूमना**  
गजगमन करना 1084 29  
डगमगाना 1084 35  
नाचना 462 26  
मदोन्मत्त होना 211 10

**झूमर**  
झूमका 228 13  
प्रालंब सूची 1024 4

**झूरा**  
अल्पता 942 1  
वर्षाहीनता 54 2

**झूला**  
झूला 1034 3  
झूला रस्सी 1034 7  
पशु पीठ चादर 593 25  
प्रालंब सूची 1024 4  
रस्सी झूला 1034 5

**झूलता [झूलती]**  
झूलना [झूलती] 1034 21 ⇨  
प्रलंबित 1024 10

**झूलतापन**  
प्रलंबितता 1024 2

**झूलदार**  
प्रलंबित 1024 10

**झूलन**  
झूलन 1034 1 ⇨  
झूला गीत 457 34  
प्रलंबन 1024 1

**झूलना**  
झूलना 1034 19 ⇨  
पालना 1034 17  
प्रलंबित होना 1024 8

**झूलना [झूलनी]**  
झूलने वाला 1034 22

**झूलनी बैठक**  
बैठक सूची 485 12

**झूलने वाला**  
झूलने वाला 1034.22 ⇨

**झूला**  
झूला 1034.3 ⇨  
ढीला जनाना कुरता 585 36  
पालना 1034 17

**झूला उत्सव**  
झूला तीज 57.8

**झूला कुरसी**  
ढोलन कुरसी 1034 16  
रीकिंग बेअर 595 25

**झूला गति**  
झूला गति 1035 3 ⇨

**झूला गाड़ी**  
केबल ट्रेन 1071 65

**झूला गीत**  
झूला गीत 457 34 ⇨

**झूला झूलना**  
झूलना 1034 19

**झूला तीज**  
झूला तीज 57 8 ⇨

**झूला: पटरी**  
झूला पटरी 1034 6 ⇨

**झूला पुल**  
झूला पुल 1065 11 ⇨

**झूला: रस्सी**  
झूला रस्सी 1034 7 ⇨

**झूली**  
ओसाई चादर 548 24

**झोंप**  
झोंप 845 4 ⇨

**झोंपाना**  
लज्जित करना 845 8

**झोंपू**  
झोंपू 845 13 ⇨  
लज्जाराशील 845 11

**झोंप**  
झोंप 845 4

**झेलन**  
प्रहार सहन 920 1

**झेल न पाना**  
प्रहार न सहना 919 5

**झेलना**  
प्रतिरोध करना 915 4  
प्रहार सहना 920 12  
सहन करना 872 9

**झेलने वाला**  
प्रतिरोधी 915 11  
प्रहार सहन कर्ता 920 16

**झेलम**  
भारत उपमहाद्वीप: नदी सूची 20.7

**झेलू**  
प्रहार सहन कर्ता 920 16

**झेले जाना**  
सहन हो पाना 872 8

**झोंक**  
आदेश 371 1  
झोंक 668 10 ⇨  
भार 963 1  
मद 211 1

**झोंक**  
शीघ्रता 496 1

**झोंकन**  
झोंक 668.10

**झोंकना**  
अपव्यय करना 644.15

## झोंक मारना

झ.ऊना 668.23 ⇨  
पूँजी निवेश करना 628.22

## झोंक मारना

कम तौलना 962.64

## झोंकवा

भाङ्गुँजा [भाङ्गुँजी] 195.72

## झोंका

झोंका 85.12 ⇨

झोटा 1034.2

प्रवाह 1041.1

लहर 1040.17

## झोंकाई

झोंक 668.10

## झोंझ

गलमांस 134.15

## झोंटा

जटा 137.7

झूला रस्सी 1034.7

झोटा 1034.2 ⇨

## झोंटा लेना

झोटा लेना 1034.20 ⇨

## झोंपका

कुटी 602.1

## झोंपकी

कुटी 602.1

छोटा भवन 602.9

वक्ता गृह 601.2

## झोंझर

उदर 148.6

## झोरी

झोली 673.17

## झोल

कड़ी 201.15

काढ़ा 208.19

बीसा 672.5

पौक 195.17

भाजा 1015.5

भाजा 1024.3

भाजा रसा 201.24

## झोलदार

बीला [टीली] 1015.12

बीला [परिधान] 583.26

प्रलंबित 1024.10

रसेदार 201.26

## झोसा

गिलाफ़ 675.5

चोला 585.24

झोला 673.16 ⇨

प्रालंब सूची 1024.4

शिक्षा झोली 642.10

लक्ष्म्या 264.12

शीपिंग बैग 673.10

## झोली

झोली 673.17 ⇨

स्लीपिंग बैग 1087.35

## झोलीचुक

चाटुकार 841.35

## झोली फैलाना

शिक्षा माँगना 642.15

## झोली धरना

समृद्ध होना 626.10

## झोली में डालना

शिक्षा देना 642.17

## झोंव

उदर 148.6

## झोंर

गुच्छा 686.17

मद झूम 211.2

वृक्ष कुंज 12.18

समूह 690.1

## झोंरा

दल 691.1

## झोंराना

मदोन्मत्त होना 211.10

म्लान होना 120.7

## ट

## टंक

कुल्हाड़ी 559.10

तलवार 924.7

दर्प 858.5

पर्यंत डाल 16.12

म्यान 924.12

विदर 544.4

## टंकक

टाइपिस्ट 413.2

## टंकटा

राक्षस स्त्री सूची 784.23

## टंकण

झलाई 565.4

## टंकण क्षार

सुहागा 281.33

## टंकण यंत्र

झलाई यंत्र 565.6

## टंकन

टाइपिंग 413.1

## टंकपति

टंकसालिया 565.10

## टंकशाला

टंकसाल 565.9

## टंका

घोंदी सिक्का 629.3

## टंका [टंकी]

अटका [अटकी] 1024.11

झला [झली] 565.25

टंका [टंकी] 577.30 ⇨

संग्रहित 573.15

## टंकाई

गैठाई 577.5

झलाई 565.4

टंकाई 577.6 ⇨

संग्रथन 573.1

स्टिपिंग 418.4

## टंकाई करना

टंका 577.26

## टंकापन

अटकापन 1024.7

## टंकार

झंकार 296.9

टनटन 296.10

धनुष ध्वनि 296.18

प्रतिध्वनि 294.4

## टंफित

टाइपड 413.29

## टंफित करना

टाइप करना 413.27

## टंफित्र (प्र)

टाइपराइटर 413.3

## टंकी

कुंड 679.22

टंकी 679.28 ⇨

पीपा 678.13

सिलो 670.17

होज़ 18.14

## टंकृत

झकृत 296.27

## टंकृत होना

झकृत होना 296.26

## टंकोर

धनुष ध्वनि 296.18

## टंकोरी

स्वर्ण तराजू 962.15

## टंग

परशु 924.14

## टंगड़ी

पैर 149.12

## टंगना

अटकना 1024.9

प्रलंबित होना 1024.8

## टंगा [टंगी]

प्रलंबित 1024.10

## टंगाई

प्रलंबन 1024.1

## टंगापन

प्रलंबितता 1024.2

## टंगाव

प्रलंबितता 1024.2

## टंग

कठोरहृदय 835.11

दुर्जन 818.5

बलिष्ठ 180.10

शस्त्रीकृत 907.45

सजा धजा [सजी धजी] 226.13

सत्रद्ध 491.16

स्वस्थ 161.5

## टंग घंट

धर्म कर्म. आडबर 747.2

पाखंड 825.2

## टंगा

उपद्रव 903.1

कलह 708.1

खटराग 747.4

## टंगा बखेड़ा

कलह 708.1

खटराग 747.4

## टंगाबाज

कलहप्रिय 708.13

तकरारी 708.14

## टंगैल

शीघालय कर्मी 216.24

## टंगैलर (अँ)

गिलास 684.9

## टंगैलर (अँ)

मग 684.14

## टक

टकटकी 284.11

तराजू 962.9

बड़ा तराजू 962.10

## टकटकाता [टकटकाती]

ताकने वाला 284.53

## टकटकी

टकटकी 284.11 ⇨

## टकटकी बंधना

टकटकी बंधना 284.40 ⇨

## टकटकी लगाना

ताकना 284.41

## टकटकी से

टकटकी से 284.56 ⇨

## टकटोह

टटोल 336.11

## टकटोहना

टटोलना 336.21

## टक बंधना

टकटकी बंधना 284.40

## टकरना

टकराना 1051.31

## टकरा कर लौटना

टिप्पा खाना 1052.17

प्रतिनोदित होना 1051.20

## टकरा कर लौटा

प्रतिनोदित 1051.35

## टकरा कर वापस होना: क्रिया

प्रतिनोदन 1051.4

## टकराता [टकराती]

मुठभेड़ ग्रस्त 915.12

## टकराना

टकराना 1051.31 ⇨

ठोकर लगना 1084.33

प्रतिनोदित होना 1051.20

प्रतिरोध करना 915.4

मुठभेड़ करना 915.8

युद्ध करना 905.31

## टकराव

एकता भग 699.2

प्रतिरोध 915.1

मुठभेड़ 915.2

विरोध 886.4

सघर्ष 905.1

**टकराहट**  
 मुठभेड़ 915.2  
**टक लगाना**  
 प्रतीक्षा करना 1057 5  
**टकसाल**  
 टकसाल 565.9 ⇨  
 विशाल धनकोश 630 2  
**टकसाल: अध्यक्ष**  
 टकसालिया 565 10  
**टकसालिया**  
 टकसालिया 565 10 ⇨  
**टकसाली**  
 खरा [खरी] 98 12  
 परिष्कृत 537.9  
 प्रामाणिक 327.11  
 विश्वसनीय 340.13  
**टकसाली भाषा**  
 परिष्कृत भाषा 421 27  
**टकहाई**  
 सस्ती वेश्या 807 8  
**टका**  
 अधत्रा 629 6  
 चौंटी सिक्का 629 3  
 टका 629.12 ⇨  
**टका (बांग्ला देश)**  
 रुपया 629 20  
**टका भर**  
 अत्यल्पत 942 24  
**टका सा जवाब**  
 स्पष्ट उत्तर 334 4  
**टका सा मुँह ले कर रह जाना**  
 लज्जित होना 845.6  
**टकाही**  
 सस्ती वेश्या 807 8  
**टकुआ**  
 तराजू पलड़ा डोरी 962.24  
**टकैत**  
 धनाढ्य व्यक्ति 626 5  
**टकोर**  
 चरपरापन 278 1  
 धनुष ध्वनि 296 18  
**टकोरना**  
 आहत करना 168 5  
 बजाना 461 103  
**टकोरी**  
 टक्कर 1051 16  
**टकोरी**  
 स्वर्ण: तराजू 962 15  
**टक्कर**  
 अहित 712.2  
 खेल प्रतियोगिता 475 15  
 जयपराजयहीनता 912.8  
 टक्कर 1051.16 ⇨  
 ठोकर 1084.10  
 दुर्घटना 168.2  
 प्रतियोगिता 707.2  
 प्रतिरोध 915 1  
 मुठभेड़ 915.2

युद्ध 905 4  
 समान प्रतियोगिता 707.3  
**टक्कर का**  
 समान (प्रतियोगी) 707 10  
**टक्कर खाना**  
 ठोकर लगना 1084.33  
**टक्कर लेना**  
 प्रतिरोध करना 915 4  
**टक्करें खाना**  
 मार्गघ्युत होना 1099 5  
**टखना**  
 टखना 149 17 ⇨  
**टग (अँ)**  
 टग बोट 1072 27  
**टग आक्र वार (अँ)**  
 रस्साकशी 477 13  
**टगण**  
 मात्रिक गण सूची 452 45  
**टग बोट**  
 टग बोट 1072 27 ⇨  
**टग बोट (अँ)**  
 टग बोट 1072 27  
**टगर (अँ)**  
 नौका कर्षक 1080 4  
**टगवे (अँ)**  
 गून पथ 1066 10  
**टर्गिंग (अँ)**  
 नौका कर्षण 1080 3  
**टघरना**  
 द्रवित होना 80 4  
**टघडाउन**  
 टघडाउन 1081 27 ⇨  
**टघडाउन (अँ)**  
 टघडाउन 1081 27  
**टटका [टटकी]**  
 अभुक्त 364 9  
 ताज़ा [ताज़ी] 197 43  
**टटकाई**  
 ताज़गी 197 14  
**टटपूँजिया**  
 पिछलग्गू 1096 13  
**टटल बटल**  
 असंगत 439 5  
 बकवासपूर्ण 428 25  
**टटीरी**  
 टिटिहरी 126 42  
**टटुआ**  
 टट्टू 127.34  
**टटोल**  
 टटोल 336.11 ⇨  
**टटोलना**  
 टटोलना 336.21 ⇨  
**टटोहना**  
 टटोलना 338.21  
**टट्टर**  
 टट्टर 605.4  
**टट्टरी**  
 डींग 842 4

ढोल 461 44  
**टट्टा**  
 अंडकोश 152 11  
**टट्टी**  
 आड़ 605 1  
 छद्म आवरण 824 10  
 टट्टर 605 4  
 परदा दीवार 607 5  
 विष्ठा 216.2  
 शौचालय 216 18  
**टट्टू**  
 टट्टू 127 34 ⇨  
**टट्टर**  
 टट्टर 605.4 ⇨  
**टन**  
 टन 959.49 ⇨  
 टन 962.37 ⇨  
**टन (अँ)**  
 टन 959 49  
 टन 962.37  
**टन (बीज रूप)**  
 मीट्रिक टन 962 52  
**टनटन**  
 टनटन 296 10 ⇨  
**टनडम**  
 जोत टनडम 1071 34  
**टनमन**  
 टोना टोटका 759.1  
**टनमना [टनमनी]**  
 प्रसन्नचित्त 837 16  
 बलिष्ठ 160 10  
 स्वस्थ 161 5  
**टनल (अँ)**  
 सुरंग 1065.1  
**टनलिंग (अँ)**  
 सुरंग खनन 1018 6  
**टनार्ई**  
 तनार्ई 1013 5  
**टनाटन**  
 बलिष्ठ 160 10  
 स्वस्थ 161 5  
**टनेज (अँ)**  
 भार क्षमता सूची 966 6  
**टप**  
 टप 679 30  
 टप 1076 14  
 तौंगा बग्घी रिक्शा: छत 611 15  
**टपक**  
 'क्षीण वर्षा 54.9  
 टपक 1032.6 ⇨  
**टपटपाहट**  
 पतन 1031.1  
**टपकता [टपकती]**  
 ज्ञावशील 83 17  
**टपकन**  
 ज्ञाव 83.3  
**टपकना**  
 टपकना 1032.20 ⇨

**टपकना (बे.)**  
 पतन होना 1031 15  
**टपक पकना**  
 सहसा आना 1093 8  
**टपका [टपकी]**  
 टपका [टपकी] 1032 32 ⇨  
**टपकाई**  
 ज्ञावण 83 4  
**टपका टपकी**  
 क्षीण वर्षा 54 9  
**टपकाना**  
 आसवन करना 82 5  
**टपकाव**  
 क्षीण वर्षा 54.9  
**टपटप**  
 टपटपाहट 297.22  
**टपटप करना**  
 टपकना 1032 20  
**टपटप गिरना**  
 टपकना 1032 20  
**टपटपाना**  
 विवश होना 901 7  
**टपटपाहट**  
 टपटपाहट 297.22 ⇨  
**टपाई**  
 लंघन 1097 7  
**टपाटप**  
 अनवरत (वर्षा) 54 24  
 अविरामतः 1049 16  
**टपाना**  
 टालमटोल करना 495 8  
**टप्पर**  
 छज्जा 611 27  
 टप 1076 14  
 परिवार जन 726 9  
 बैलगाड़ी छत 611.16  
**टप्पर गाड़ी**  
 छप्पर गाड़ी 1071.29  
**टप्या**  
 कूद 1086.3  
 टप्या 457.32 ⇨  
 टिप्या 1052 10  
 थाप 458 51  
**टब**  
 टब 679.30 ⇨  
 टब 1076 14 ⇨  
**टब (अँ)**  
 टब 1076 14  
 टब 679.30  
**टब (बे.)**  
 कुंड 679 22  
**टमटम**  
 टमटम 1071.40 ⇨  
**टपाटर**  
 साग सब्जी सूची 189.4  
**टर**  
 अकड़ 734 9  
 दर 57.48 ⇨

## टरकना

बकवास 428 7  
हठ 349 4  
**टरकना**  
चुपचाप पलायन करना 916 11  
**टरका [टरकी]**  
चुपचाप पलायित 916 20  
स्थगित 495 13  
**टरकाना**  
टालमटोल करना 495 8  
**टरकावा**  
टालमटोल 495 3  
**टरटर**  
टरटर 298 21 ⇌  
**टर टर करना**  
प्रलाप करना 428 13  
**टरटराना**  
प्रलाप करना 428 13  
**टरबाइन**  
टरबाइन 1078 16 ⇌  
**टरबाइन (अँ)**  
टरबाइन 1078 16  
**टर सगाना**  
प्रलाप करना 428 13  
**टर्कोइज**  
टर्कोइज 96.11 ⇌  
**टर्कोइज (अँ)**  
टर्कोइज 96 11  
**टर्कोइज (अँ)**  
रत्न सूची 96.5  
**टर्न (अँ)**  
पारी 70 9  
बारी 70 8  
**टर्न कक्र**  
टर्न कक्र 585.79 ⇌  
**टर्न कक्र (अँ)**  
टर्न कफ 585 79  
**टर्पेदाइन (अँ)**  
तारपीन 290 24  
**टर्न (अँ)**  
अध्ययन सत्र 322 8  
**टर्टर**  
कघर पघर 294 10  
टरटर 298 21  
**टर्ना [टर्नी]**  
अकड़बाज़ 734 22  
धृष्टभावी 432 14  
**टर्नाना**  
कटु भाषण करना 432 8  
**टर्न**  
अकड़बाज़ 734.22  
कीआ 126 22  
धृष्टभावी 432 14  
मंडक 124 2  
**टस न सकना**  
अवश्य होना 68 11  
**टसना**  
चुपचाप पलायन करना 916 11  
विलंब होना 495.6

**टलनीय**  
कर्तृत्व अधीन 260 28  
निवार्य 920 19  
**टला [टली]**  
निवारित 920 17  
स्थगित 495 13  
**टलाटली**  
टालमटोल 495 3  
**टलाव**  
निवारण 920 4  
स्थगन 495 2  
**टसक**  
टीस 392 13  
**टसकना**  
टीसना 392 19  
धंसना 1031 19  
विस्थापित होना 1036 11  
**टसकाना**  
विस्थापित करना 1036 12  
**टसर**  
कीट सूची 122 12  
टसर 580 15 ⇌  
टसर रेशम 568 13  
**टसर रेशम**  
टसर रेशम 568 13 ⇌  
**टसुआ**  
असु 387 1  
दिखावटी आँसू 387 2  
**टहकना**  
टीसना 392 19  
**टहना**  
शाखा 114 10  
**टहनी**  
प्रशाखा 114 11  
शाखा 114 10  
**टहनीदार**  
शाखायुक्त 114 15  
**टहल**  
अनुपेक्षा 184 2  
परिचर्या 651 6  
पूजा 751 1  
सत्कार 184 1  
**टहलकदमी**  
घेहलकदमी 1084 7  
मंद गति 1045.2  
**टहलदारनी**  
परिचारिका 651 29  
**टहलना**  
मंद गमन करना 1045.8  
विचरना 1085 10  
**टहलुआ**  
परिचारक 651 28  
**टहलुई**  
परिचारिका 651 29  
**टीक**  
आकलन 947 5  
खंड 938 1  
झलाई 565 4

निब टिप 416 18  
**टौकना**  
कच्ची सिलाई करना 577 24  
गौठना 577 25  
टौकना 577 26 ⇌  
लेखा प्रविष्टि करना 632 36  
संग्रहित करना 573 10  
सुलेखन करना 412 38  
**टौंकर**  
कुटना 807 10  
**टौंका**  
गंगाल 679 24  
सयुति 1010 7  
स्टिच 572 9  
**टौंका लगाई**  
झलाई 565 4  
टौंकाई 577 6  
**टौंका लगाना**  
झलाई करना 565 22  
**टौंकी**  
चीरा 174 4  
छेनी 559 20  
टंकी 679 28  
होज़ 18 14  
**टौंग**  
टौंग 149.15 ⇌  
पैर 149 12 †  
**टौंग अड़ाना**  
हस्तक्षेप करना 1047.20  
**टौंगना**  
फौसी चढ़ाना 871.19  
**टांगः पिछली ओर मांसल भाग**  
पिंडली 149 16  
**टौंगा**  
तौंगा 1071 38  
**टौंगा घालक**  
तौंगे वाला 1079 7  
**टौंच**  
कटाई छँटाई 543 7  
थेगली 577 10  
भौंजी 844 4  
संयुति 1010 7  
स्टिच 572 9  
**टौंचना**  
कच्ची सिलाई करना 577 24  
टौंकना 577 26  
**टौंच मारना**  
भौंजी मारना 844 9  
**टौंची**  
नौली 672 8  
भौंजी 844 4  
**टौंट**  
केशहीन सिर 137.17  
टौंट 140.4 ⇌  
**टौंठा [टौंठी]**  
बलिष्ठ 160.10  
**टौंक**  
आखेट मंच 252 23

आवास समूह 619 3  
टौंड 612 4 ⇌  
टौंड 670 14 ⇌  
ढेर 686 6  
पालघर 1073 40  
भार वाहक बैल समूह 127 16  
**टौंका**  
असबाब 1087 31  
आवास समूह 619 3  
टौंक 670 14  
ढेर 686 6  
परिवार 726 1  
भार वाहक बैल समूह 127 16  
माल भार 1061 7  
सतान समष्टि 718.2  
सार्थ 657 13  
**टौंको**  
ग्राम 620 1  
**टौंय टौंय**  
बकवास 428 7  
**टाइटिल (अँ)**  
उपाधि 856 1  
शीर्षक 447 17  
**टाइप**  
टाइप 413.13 ⇌  
**टाइप (अँ)**  
कोटि 936 1  
टाइप 413 13  
**टाइप करना**  
टाइप करना 413 27 ⇌  
**टाइप बैठाना**  
कपोज़िग करना 413.28  
**टाइप मुख**  
फ़ेस 413.21  
**टाइपराइटर**  
टाइपराइटर 413.3 ⇌  
**टाइपराइटर (अँ)**  
टाइपराइटर 413 3  
**टाइप बर्ग**  
फ़ौंट 413 22  
**टाइप सैट करना**  
कपोज़िग करना 413.28  
**टाइपसैटिंग**  
टाइपसैटिंग 413.9 ⇌  
**टाइपसैटिंग (अँ)**  
टाइपसैटिंग 413.9  
**टाइपिंग**  
टाइपिंग 413.1 ⇌  
**टाइपिंग (अँ)**  
टाइपिंग 413 1  
**टाइपिंग मशीन (अँ)**  
टाइपराइटर 413.3  
**टाइपिस्ट**  
टाइपिस्ट 413.2 ⇌  
**टाइपिस्ट (अँ)**  
टाइपिस्ट 413.2  
**टाइपोग्राफी (अँ)**  
टाइपसैटिंग 413.9



## टाइप

टाइप 413.29 ⇨

## टाइप (अ)

टाइप 413.29

## टाइम (अ)

काल 36 1

घड़ी समय 50 3

पारी 70 9

## टाइम ज़ोन (अ)

समय क्षेत्र 50 4

## टाइम ज़ोन अंतर

समय क्षेत्र अंतर 50 5

## टाइम टेबल (अ)

कार्यक्रम 520 4

समय सारणी 993 11

## टाइम पीस (अ)

मेज़ घड़ी 50 24

## टाइम मशीन (अ)

काल यंत्र 964 18

## टाइमिंग (अ)

अभिनय गति 464 22

## टाइम्स (अ)

समाचार पत्र 445 1

## टाई

टाई 912 10 ⇨

## टाई (अ)

टाई 912 10

नैकटाई 585 2

## टाई ऐंड डाई (अ)

बधेज 578 5

## टाई पिन (अ)

नैकटाई पिन 585 4

## टाउन (अ)

कसबा 620 6

नगर 620 10

महल्ला 619 6

## टाउन प्लानिंग (अ)

नगर अभियांत्रिकी 599 11

## टाउन हाल (अ)

नगर भवन 695 5

## टाकरा

टक्कर 1051 16

मुठभेड़ 915 2

## टाकी (अ)

सवाक फिल्म 472 3

## टाकीज़ (अ)

सिनेमा घर 471 11

## टाट

टाट 580 16 ⇨

टाट 593 50 ⇨

परदा 605 6

मोटा वस्त्र 579 8

सन कपड़ा 579 12

## टाट: छोटा धैला

बोरी 673 20

## टाटर

कपाल 133 6

टट्टर 605 4

## टाटरी

टाटरी 277 14 ⇨

## टाठी

थाली 685.2

## टान

आखेट मद्य 252 23

कर्षण 1051 7

तनाव 1013 6

## टानना

कर्षित करना 1051 22

तानना 1013 19

## टान

अश्व खुर 150 12

टब 1076 14

थाप 458 51

## टाप (घोड़ा)

एक पद 1083 2

## टापड़

ऊसर 552 3

## टापते रह जाना

प्रतिफल न मिलना 510 9

## टापते रहना

टालमटोल का शिकार होना 495 9

## टापना

कूदना 1086 17

छल्लंगना 1086 18

टालमटोल का शिकार होना 495 9

परेशान होना 519 16

प्रतिफल न मिलना 510 9

लॉथना 1097 12

विवश होना 901 7

## टापलेस (अ)

नग्नवक्ष 590 18

## टापा

मुरगी टोकरा 555 6

मैदान 11 1

## टापू

द्वीप 26 1

## टाप्रटा

ताफ्ता 580 24

## टामचीनी

चीनी मिट्टी घड़ा टीन 94 7

## टामचीनी बरतन

टामचीनी बरतन 680 15 ⇨

## टामलोट

टामचीनी बरतन 680 15

टामलोट 684 15 ⇨

## टायर

टायर 1077 9 ⇨

## टायर (अ)

टायर 1077 9

## टायलेट (अ)

शौचालय 216 18

## टायलेट सौप (अ)

स्नान साबुन 220 30

## टायलेट सीट (अ)

कमोड 216 20

## टारपीडो

आतिशबाज़ी सूची 56 6

## टार्च

टार्च 285 8 ⇨

## टाल

ईंधन दुकान 110 15

निवारण 920 4

पशुशाला 603 19

स्थगन 495 2

## टालना

अवज्ञा करना 348 4

टालमटोल करना 495 8

निवारण करना 920 14

मत्र काटना 758 34

स्थगित करना 495 7

## टालमटोल

टालमटोल 495 3 ⇨

## टालमटोल करना

टालमटोल करना 495 8 ⇨

## टालमटोल का शिकार होना

टालमटोल का शिकार होना 495 9 ⇨

## टालमटोलू

टालू 495 14

## टाली

घटी 461 30

## टालू

टालू 495 14 ⇨

बहानेबाज़ 495 15

## टिक्कर

टिक्कर 176 17 ⇨

## टिक्कर (अ)

टिक्कर 176 17

## टिक्कर

टिक्कर 176 17

## टिंज (अ)

रंग झलक 289 4

## टिंट (अ)

रंग आभा 289 2

## टिंडा

टिंडा 189 22 ⇨

साग सब्जी सूची 189 4

## टिंडोरा

टिंडा 189 22

## टिंडोरा

साग सब्जी सूची 189 4

## टिकट

टिकट 622 14 ⇨

डाक टिकट 444 30

प्रवेश शुल्क 665 4

यात्रा भाड़ा 622 13

## टिकट (अ)

टिकट 622 14

## टिकट बिड़की

टिकट घर 471 2

## टिकट घर

टिकट घर 471.2 ⇨

## टिकट पाकिट

टिकट पाकिट 672 2 ⇨

## टिकट पाकिट (अ)

टिकट पाकिट 672 2

## टिकटिक

जोत यान चालन 1079 3

टिकटिकाहट 297 23

## टिकटिक करना

जोत यान चलाना 1079 18

## टिकटिकाता [टिकटिकाती]

स्पर्धित 1039 18

## टिकटिकाना

स्पर्धित होना 1039 14

## टिकटिकाहट

टिकटिकाहट 297.23 ⇨

## टिकटिकी

टकटकी 284 11

फौसी तख्ता 871 12

## टिकटी

तिपाई 595 41

प्रांलंबन सूची 1024 5

फौसी तख्ता 871 12

## टिकड़ा

टिकड़ा 938 20 ⇨

## टिकड़ी

टिकड़ा 938 20

## टिकन

आधार ग्रहण 1019 6

प्रतिरोध 915 1

## टिकना

दीर्घ काल तक रहना 37 6

धरा जाना 1019 9

निश्चल होना 1038 5

प्रतिरोध करना 915 4

शरण लेना 910 7

## टिक मार्क (अ)

स्वीकृति घिहन 407 4

## टिकरी

टिकिया 200 25

## टिकला

टिकली 977 12

नथ लटकन 228 17

## टिकली

टिकली 977 12 ⇨

तकली 562 12

धातु पिंड सूची 976 12

बिंदी टिकुली 225 14

माथा बिंदी 225 13

सितारे 571 50

## टिकस

टिकट 622 14

प्रवेश शुल्क 665 4

## टिका [टिकी]

अविचल 500 15

आधारित 1019 17

धर्मशील 394 15

विलंबित 495.11

## टिकाई

आधारण 1019 5

## टिकाऊ

### टिकाऊ

- दीर्घ कालीन 37 10  
दीर्घायु 229 19  
दीर्घशील 394.15  
सुदृढ़ 160 15

### टिकाऊपन

- अनश्वरता 37.3  
दीर्घ कालीनता 37 4  
दीर्घ 394 6  
सुदृढ़ता 160 7

### टिकाऊ रंग

- पक्का रंग 289 26

### टिकान

- उंटड़ा 1076 20  
टेक चबूतरा 596 7

### टिकान चबूतरा

- टेक चबूतरा 596 7

### टिकान डंडा

- टेक डंडा 596 5

### टिकान रोड़ा

- टेक रोड़ा 596 6

### टिकान लकड़ी

- उंटड़ा 1076 20

### टिकान वस्तु

- टेकनी 596 3

### टिकाना

- धरना 1019 10

### टिकाने वाला

- आधारण कर्ता 1019 19

### टिकापन

- आधारितता 1019 1  
निश्चलता 1038 2  
स्थायी वास 618 9

### टिका रहना

- विचलित न होना 500 8

### टिकाव

- अस्थायी वास 618 10

### टिकिया

- कटलेट 200 15  
टिकिया 200.25 ⇐  
टिकिया 977 13 ⇐  
टिकका 206 38  
मठरी 200 29  
वटी 176 25

### टिकिया चौरी

- उठाईगीरी 864 10

### टिकी रेखा

- लब रेखा 968 34

### टिकुरी

- तकली 562 12

### टिकुली

- धातु पिंड सूची 976 12  
बिंदी टिकुली 225 14

### टिकेत

- युवराज 882 22

### टिकैती

- दल नायकता 852 5

### टिकोरा

- कच्चा आम 190.9

### टिककड़

- टिकड़ा 938 20  
बाटी 202 17  
रोट 202.19

### टिकका

- टिकका 206 38 ⇐

### टिककी

- कटलेट 200 15  
टिकिया 977 13  
टिकिया 200 25  
वटी 176 25

### टिघलना

- द्रवित होना 80 4

### टिघन

- शस्त्रीकृत 907 45  
सन्नद्ध 491 16

### टिघ बटन

- टिघ बटन 571.17 ⇐

### टिटिहरी

- कुररी 126 20  
जलपक्षी सूची 126 7  
टिटिहरी 126 42 ⇐

### टिटिहा रोर

- आर्तनाद 386 3  
कोलाहल 294 8

### टिडडा

- कीट सूची 122 12  
टिडडा 122 25 ⇐

### टिडडी

- कीट सूची 122 12  
टिडडी 122 26 ⇐

### टिन

- टिन चादर 990 18

### टिन (अँ)

- कनस्तर 679 40  
टीन डिब्बा 676 3

### टिन चादर

- टिन चादर 990 18 ⇐

### टिनटाइप (अँ)

- फ़ोटोग्राफ़िक प्रारंभिक विधि सूची 405 5

### टिनटिन

- टनटन 296 10

### टिन बीक्स (अँ)

- टीन डिब्बा 676 3

### टिन शीट (अँ)

- टिन चादर 990 18

### टिप

- टीप 599 26

### टिप (अँ)

- निब टिप 416 18  
फ़्लैट पेन टिप 416 13  
बरज़ीश 640 8

### टिपटिप

- टपटपाहट 297 22

### टिप टिप करना

- टाइप करना 413.27

### टिपणीस

- टिपणीकार 427 27

### टिपाई

- टिपाई 322 19 ⇐

### टिपाई करना

- टिपाई करना 322 35 ⇐

### टिप्पणी

- टिप्पणी 427 8 ⇐

### टिप्पणीकार

- टिप्पणीकार 427.27 ⇐

### टिप्पन

- जन्म कुडली 261 7

### टिप्पस

- कूट युक्ति 819.8

- युक्ति 517 1

- स्वार्थ 712 5

### टिप्पा

- टिप्पा 1052 10 ⇐

### टिप्पा: उछाल

- टिप्पा उछालन 1052 8

### टिप्पा: उछालन

- टिप्पा उछालन 1052 8 ⇐

### टिप्पा खाना

- टिप्पा खाना 1052.17 ⇐

### टिप्पा खिलाना

- टिप्पा खिलाना 1052 16 ⇐

### टिप्पाशीलता

- टिप्पाशीलता 1052 9 ⇐

### टिप्पेदार

- उछलनशील 1052 23

### टिफिन (अँ)

- टिफिन कैरियर 676 9

### टिफिन कैरियर

- टिफिन कैरियर 676 9 ⇐

### टिफिन कैरियर (अँ)

- टिफिन कैरियर 676 9

### टिब्बा

- टीला 16 1

### टिमटिमाना

- टिमटिमाना 287.32 ⇐

### टिमटिमाहट

- टिमटिमाहट 287 25 ⇐

### टिलवा

- ठिंगना व्यक्ति 154 6

### टिल्सा

- टिल्सा 1052.11 ⇐

### टिल्से नबीस

- बहानेबाज़ 495.15

### टिपू (अँ)

- ऊतक 129 2

### टिडुक

- चीक 379 3

- रुष्टि 374.2

### टिडुकना

- चीकना 379 6

### टीडसी

- टिंडा 189 22

### टी (अँ)

- चाय 208 21

### टीअर गैस (अँ)

- ऑसू गैस 86 2

### टी आयरन

- टी आयरन 597 19 ⇐

### टी आयरन (अँ)

- टी आयरन 597 19

### टी एस्टेट (अँ)

- चाय बाग 551 6

### टीक (अँ)

- काष्ठ सूची 597 2

- सागीन 13 25

### टीका

- टीका 176 28 ⇐

- टीका 228 14 ⇐

- टीका 427 10 ⇐

- टीका 800 18 ⇐

- तिलक 225 19

- नज़र टीका 710 11

- भाई दूज 57 17

- रस्म पगड़ी 253 8

- वर रोक 800 45

- वाग्दान 800 47

- व्याख्या 427 15

- व्याख्या पुस्तक 446 31

- सम्मान तिलक 857 20

### टीका औषध

- टीका औषध 1/6 29 ⇐

### टीका कर्ता

- टीकाकार 427 28

### टीकाकार

- टीकाकार 427 28 ⇐

### टीकी

- कारडव 126 19

### टी कोज़ी (अँ)

- चाय काफ़ी बरतन सूची 680 20

### टीघर (अँ)

- अध्यापक 323 8

### टीबिंग (अँ)

- शिक्षण 321 18

### टी टाइम (अँ)

- जलपान अवकाश 494 6

### टी टेबल

- टी टेबल 595 34 ⇐

### टी टेबल (अँ)

- टी टेबल 595 34

### टीडी

- टिडुडी 122 26

### टीन

- कनस्तर 679 40

- टिन चादर 990 18

- टीन 94 6 ⇐

- रौंगा 94 13

### टीन एजर

- टीन एजर 231 4 ⇐

### टीन एजर (अँ)

- टीन एजर 231 4

टीन: चादर	टीवी ट्यूब (अं)	पका मिश्रा 642.8	टूट
टिन चादर 990 18	टीवी स्क्रीन 606 6	परसा 938.28	बाल. नोक 113.9
टीन डिब्बा	टीवी परवा	पाका 200 26	टूटी
टीन डिब्बा 676 3 ⇨	टेलीविज़न ट्यूब 472.29	पारा 739.4	नाभि 148 3
टीनबंद	टीवी सैट (अं)	प्राप्य अश 623 8	टूअर
टीनबंद 1014 11 ⇨	टेलीविज़न सैट 472 25	फाइज़न 938 30	माताहीन 719 7
टीनेजर (अं)	टीवी स्क्रीन	मांस खंड 206 25	टूट
टीन एजर 231 4	टीवी स्क्रीन 606.6 ⇨	वस्त्र-कटपीस 579 23	टूट फूट 539 2
टीप	टीवी स्क्रीन (अं)	दुकड़ी	मूल चूक 498.2
उच्च स्तर 299 5	टीवी स्क्रीन 806 6	खंड 938 1	टूटता तारा
जन्म कुडली 261 7	टी शर्ट	दल 891.1	उल्का 3 6
टीप 599 26 ⇨	टी शर्ट 585 32 ⇨	दस्ता 932 24	टूटन
दबाई 989 5	टी शर्ट (अं)	दुकड़े करना	उधड़न 574.4
प्रविष्टि 412 27	टी शर्ट 585 32	भंजित करना 539 8	ढहन 539 3
लेखा प्रविष्टि 632 5	टीस	विभाजन करना 699 12	देह शैथिल्य 492.5
स्वर ठहराव 459 33	टीस 392 13 ⇨	दुकड़े दुकड़े	पस्ती 169 6
हुडी 633 16	टीसता [टीसती]	क्रिस्तवार 634 37	टूटना
टीपटाप	टीसता [टीसती] 392.29 ⇨	दुकुर दुकुर	उत्साह भंग होना 492.8
तड़क भड़क 226 4	टीसना	ताकते हुए 284 57	एकता भंग होना 699.11
शोभा 226 1	टीसना 392.19 ⇨	दुक्कड़	कम होना 980 12
सजधज 226 6	टी सविस (अं)	उच्छिष्ट आहार 198 3	काया शिथिल होना 159 8
टीपना	चाय काफ़ी बरतन सूची 680 20	दुक्का	क्षीणकाय होना 159.7
टिपाई करना 322 35	टी सैट (अं)	घनुयाँश 949 20	जर्जर होना 536 6
टीप भरना 599 38	चाय काफ़ी बरतन सूची 680 20	दुधसाना	ढहना 539.11
टीप भरना 599 38 ⇨	बरतन सैट सूची 680 19	चुबलाना 181.41	धीर्य भंग होना 395 18
टी पार्टी (अं)	टी स्पून (अं)	दुष्वा [दुष्मी]	निर्धन होना 627 14
जलपान गोष्ठी 183 6	चाय काफ़ी बरतन सूची 680 20	अधम 840 4	प्रतिरोध असफल होना 915 6
टी पीट (अं)	छोटा चम्मच 681 17	दुष्वापन	भंजित होना 539.7
चाय काफ़ी बरतन सूची 680 20	टी हाउस (अं)	अधमता 840 1	मूल्य कम होना 664.25
टीबा	चायघर 194 5	दुट	विघटित होना 544 12
टीला 16 1	टुंगन	अल्प 942 13	विलग होना 1011.3
टीबी (अं)	टुंगाई 181 20	दुटका	व्यय होना 644.12
क्षय रोग 163 35	टुंगाई 181 20 ⇨	टोना टोटका 759.1	राक्ति नारा होना 488.6
टी ब्रेक (अं)	दुब	दुटके दूँ	टूटना फूटना
जलपान अवकाश 494.6	अधम 840 4	एकाकी 697 14	टूटना फूटना 539.10 ⇨
टीम (अं)	नागप्य 853 10	दुटके दूँ 298.15 ⇨	दुट पकना
खेल टोली 475 19	दुट	मित्रहीन 705.29	आक्रमण करना 914.13
दल 891 1	दुट	दुडी	छापा मारना 914.14
टीम खेल	शाखापल्लवहीन तना 114.8	डली 938 22	अपट्टा मारना 914.15
टीम खेल 475.8 ⇨	दुटा [दुंटी]	दुनगी	दुट फूट
टीमटाम	तुला 153.18	प्रसाधा: सिरा 114.12	दुट फूट 539.2 ⇨
तड़क भड़क 226 4	दुंठी	वृक्ष शिखर 114.14	दुट फूट होना
दिखावा 825 1	नाभि 148 3	दुनदुना	दुटना फूटना 539.10
टीम नायक	दुंझा [उत्तर ध्रुव क्षेत्र]	दुनधुना 480.11	दुटा [दुंटी]
टोली नेता 475.20	वृक्षहीन मैदान 11.3	दुनहाया [दुनहाई]	डहा [डही] 539.17
दल नायक 852 6	दुइल	टोना कर्ता 759.2	तड़का [तड़की] 544.20
टीम मैनेजर (अं)	टिपल 580.21	दुन्ना	नष्ट 531 7
टोली अध्यक्ष 475 21	दुककड़ोरी	डिपनी 114.13	बहुत धका 492.16
टीम वर्क (अं)	पराबलवितता 648 3	दुधू	भंजित 539.12
दल कर्म 700.5	दुकका	शिशु 230.3	विभाजित 899.16
टीम वर्कर (अं)	अनाज खंड 192 1	दुरा	हताश 376.6
दल कर्मी 700.24	आवासीय मूखंड 598 3	कण 938.2	टूटा वीत
टीसा	कतला 938.5	दुंगना	टूटा दौत 144.4 ⇨
छोटा पर्वत 16.5	खंड 938 1	दुंगना 181.44 ⇨	दुटापन
टोला 16.1 ⇨	प्रास 181.28	दूँट	जर्जरता 536.3
टीबी (बीज रूप)	डला 938.21	होर्न ध्वनि 296 16	दूटा फूटा [दूटी फूटी]
टेलीविज़न 472.22	धातु पिंड सूची 976.12	दूँट	जीर्ण शीर्ण 536.12
	नृत्य अंश 462.22	होर्न ध्वनि 296 16	दूटा फूटा [दूटी फूटी] 539.16 ⇨

## टूटे दाँत वाला

तुड़ा मुका [तुड़ी मुकी] 975.31  
टूटे बीस वाला  
टूटे दाँत वाला 144.18 ⇨  
दूधपेस्ट  
दूधपेस्ट 221.6 ⇨  
दूधपेस्ट (अँ)  
दूधपेस्ट 221.6  
दूधबारा  
दूधबारा 221.7 ⇨  
दूधबारा (अँ)  
दूधबारा 221.7  
दूना  
दूना 125.5 ⇨  
दूना (अँ)  
दूना 125.5  
दू-पीस कास्टचूम  
दू-पीस कास्टचूम 483.9 ⇨  
दू-पीस कास्टचूम (अँ)  
दू-पीस कास्टचूम 483.9  
दूर (अँ)  
दूरा 1087.12  
दूरिज्म (अँ)  
पर्यटन 1090.6  
पर्यटन उद्योग 1090.13  
दूरिस्ट (अँ)  
पर्यटक 1090.7  
दूरिस्ट इंडस्ट्री (अँ)  
पर्यटन उद्योग 1090.13  
दूरिस्ट एजेंसी (अँ)  
ट्रेवल एजेंसी 1090.15  
दूरिस्ट कैप  
दूरिस्ट कैप 1090.20 ⇨  
दूरिस्ट कैप (अँ)  
दूरिस्ट कैप 1090.20  
दूरिस्ट गाइड (अँ)  
पथ प्रदर्शिका 1087.28  
दूरिस्ट टाउन (अँ)  
सीतानी नगर 620.18  
दूरिस्ट बैंगलो  
दूरिस्ट बैंगलो 1090.21 ⇨  
दूरिस्ट बैंगलो (अँ)  
दूरिस्ट बैंगलो 1090.21  
दूरिस्ट लीज  
दूरिस्ट लीज 1090.22 ⇨  
दूरिस्ट लीज (अँ)  
दूरिस्ट लीज 1090.22  
दूरिस्ट स्पीड (अँ)  
पर्यटन स्थल 1090.8  
दूर्नार्मिट (अँ)  
खेल प्रतियोगिता 475.15  
दूर्नीकेट  
दूर्नीकेट 174.14 ⇨  
दूर्नीकेट (अँ)  
दूर्नीकेट 174.14  
दूस (अँ)  
उपकरण 558.7  
दूबर  
अनाथ 719.5

दूबे ट्रेफिक (अँ)  
दो दिशा मार्ग 1067.5  
दू-कीलर (अँ)  
द्विचक्र यान 1070.3  
दूस  
परामीना 568.10  
दें  
टैटे 298.16  
देंच  
सिंघाड़ा मछली 125.14  
देंट  
जेब 672.1  
देंट  
टैटे 672.6 ⇨  
देंदुआ  
कठ मणि 145.6  
काकल 145.10  
श्वास वाहिका 145.15  
देंदुआ दबाना  
वाधा रोधन करना 429.18  
देंदें  
टैटे 298.16  
देंउकी  
टेक रोड़ा 596.6  
टेक  
आधार 596.1  
आधार सूची 596.2  
आन 349.3  
गीत स्थायी 451.23  
टीला 16.1  
टेक थूनी 596.4  
टेकनी 596.3  
पाया 598.15  
पीठाग्रय 596.29  
प्रतिज्ञा 339.17  
लीवर टेक 1062.4  
सकल्प 500.1  
हठ 349.4  
टेक (अँ)  
फ़िल्म शीट 472.17  
टेकओक्र (अँ)  
नभोत्तरण 1081.18  
टेकओक्र करना  
नभयान प्रस्थान करना 1082.28  
नभोपरित होना 1081.45  
टेकओक्र रन (अँ)  
टेक्सीडंग 1081.22  
टेकओक्र स्पीड  
टेकओक्र स्पीड 1081.33 ⇨  
टेकओक्र स्पीड (अँ)  
टेकओक्र स्पीड 1081.33  
टेक चबूतरा  
टेक चबूतरा 596.7 ⇨  
टेक डंडा  
टेक डंडा 596.5 ⇨  
टेकड़ी  
टीला 16.1

टेक थूनी  
टेक थूनी 596.4 ⇨  
टेक दीवार  
सहारा दीवार 607.4  
टेकन  
आधारण 1019.5  
टेकना  
धरना 1019.10  
शरण देना 910.8  
टेकनी  
टेक थूनी 596.4  
टेकनी 596.3 ⇨  
टेक पकड़ना  
हठ करना 349.9  
टेकरी  
छोटी पहाड़ी 16.6  
टीला 16.1  
टेक रेखा  
आधार भुजा 968.30  
टेक रोड़ा  
टेक रोड़ा 596.6 ⇨  
टेक लकड़ी  
उँटड़ा 1076.20  
टेक लेना  
धरा जाना 1019.9  
फ़ोटोग्राफी करना 405.26  
टेक वाला /  
दृढ़प्रतिज्ञा 339.45  
टेक स्टैंड  
टेक स्टैंड 596.8 ⇨  
टेकान  
टेक चबूतरा 596.7  
टेकाना  
धरना 1019.10  
टेकानी  
अक्षाग्र कील 1077.14  
टेकिंग (अँ)  
फ़िल्मांकन 472.15  
टेकी  
दृढ़प्रतिज्ञा 339.45  
हठी 349.14  
टेकुआ  
ओटनी 562.1  
घरखा: तकला 562.11  
टेकुरी  
सूजा 562.26  
टेकी उंगली से धी निकालना  
कूट युक्ति करना 819.13  
टेढ़  
असमतलता 987.1  
वक्रता 974.1  
विकर्णता 1026.5  
टेढ़ा  
अगम्य 519.25  
टेढ़ा [टेढ़ी]  
अवनमित 1025.8  
असमतल 987.6  
कठिन 519.18

कुटिल 818.7  
कुबड़ा [कुबड़ी] 153.23  
कूट 823.12  
छलपूर्ण 827.22  
प्रबल 487.24  
वक्र 974.16  
वक्रगामी 1098.25  
वक्रांग 153.22  
विकर्णयुक्त 1026.11  
झीर 396.6  
टेवाई  
वक्र गति 1098.9  
टेढ़ा जवाब  
वक्र उत्तर 334.3  
टेढ़ापन  
अवनमितता 1025.4  
कुटिलता 818.3  
वक्रागता 153.5  
विकर्णता 1026.5  
टेढ़ा बँधी [टेढ़ी बँधी]  
वक्रांग 153.22  
टेढ़ाबँचापन  
वक्रागता 153.5  
टेढ़ा बोलना  
कुटिल भाषण करना 432.9  
टेढ़ा मेढ़ा [टेढ़ा मेढ़ी]  
मोड़दार 974.23  
वक्र 974.16  
टेढ़ाबँचापन  
सर्पिलता 974.5  
टेढ़ा मेढ़ा रास्ता  
पगडंडी 1063.47  
टेढ़ी  
लगा 563.6  
टेढ़ी खीर  
कठिन कार्य 519.2  
कठिन कार्य उपमान सूची 487.34  
टेढ़ी गति  
वक्र गति 1098.9  
टेढ़ी तलवार  
वक्र तलवार 924.9  
टेड़े  
वक्रतः 974.24  
टेड़े जाना  
वक्र जाना 1098.19  
टेड़े मेड़े अक्षर  
कुलेख 412.12  
टेनेंट (अँ)  
भाड़ेदार 622.23  
टेनेंसी (अँ)  
आवास अधिकार 622.6  
टेप  
टेप 571.20 ⇨  
फ़ीता 571.26  
टेप (अँ)  
शेपव्य सूची 1012.4  
टेप 571.20  
मैग्नेटिक टेप 571.22

सर्जिकल टेप 174 15  
**टेप काटना**  
 उद्घाटन करना 693.6  
**टेप रिकार्डर**  
 टेप रिकार्डर 300 19 ⇐  
**टेप रिकार्डर (ऑ)**  
 टेप रिकार्डर 300 19  
**टेपी**  
 अपिधानित 675 19  
**टेबल (ऑ)**  
 भोजन पटल 194 10  
 मेज़ 595 33  
 सारणी 993 10  
**टेबल आफ़ कंटेंट्स (ऑ)**  
 विषय सूची 447 7  
**टेबल क्लॉक (ऑ)**  
 मेज़ घड़ी 50 24  
**टेबल टैनिंग**  
 टेबल टैनिंग 478.2 ⇐  
**टेबल टैनिंग (ऑ)**  
 टेबल टैनिंग 478 2  
**टेबल स्पून (ऑ)**  
 बड़ा चम्मच 68\* 18  
**टेर**  
 आवाहन 105.5 1  
 पीपी 298 17  
 वशी तान 458 16  
**टेरना**  
 आवाहन करना 105.5 7  
**टेरु**  
 भेगा [भेगी] 164 11  
**टेल (ऑ)**  
 पीठ पल्ला 585 7.3  
 विमान पुच्छ 1074 24  
**टेलर (ऑ)**  
 दर्जी 577 3  
**टेलरिंग (ऑ)**  
 सिलाई 577 1  
**टेलर्स टेप (ऑ)**  
 दर्जी टेप 959 7  
**टेलिफोन**  
 टेलीफोन 300 22  
**टेलिफोन डायरेक्टरी**  
 टेलिफोन डायरेक्टरी 993 13 ⇐  
**टेलिफोन डायरेक्टरी (ऑ)**  
 टेलिफोन डायरेक्टरी 993 13  
**टेलीफोन**  
 टेलीफोन 300 22  
**टेलीफोन**  
 टेलीफोन 300 22 ⇐  
**टेलीफोन (ऑ)**  
 टेलीफोन 300 22  
**टेलीविज़न ट्यूब**  
 टेलीविज़न ट्यूब 472.29 ⇐  
**टेल्हा**  
 मंगलोत्सव 796 1  
 विवाह उत्सव 799.2

**टैव**  
 कुयसन 812 7  
 भोग लिप्सा 363 4  
**टैवना**  
 तीक्ष्ण करना 270.15  
**टैवा**  
 जन्म कुडली 261 7  
**टैवैया**  
 तीक्ष्ण कर्ता 270 20  
**टैशन**  
 रेलवे स्टेशन 1069 3  
**टैसुआ**  
 साँझी 57 29  
**टैसू**  
 उपवन पुष्प सूची 14 2  
 पलाश 13 13  
 साँझी 57 2J  
 होली रंग 57 34  
**टैस्ट (ऑ)**  
 सुरुचि 400 5  
**टैक**  
 टैक 1070 17 ⇐  
**टैक (ऑ)**  
 कुड 679 22  
 टकी 679 28  
 टैक 1070 17  
 पीपा 678 13  
**टैक तोप: गुंबद**  
 टैक तोप गुंबद 611 7 ⇐  
**टैकर (ऑ)**  
 तरल भार यान 1071 4  
**टैकेज (ऑ)**  
 भार क्षमता सूची 966 6  
**टैजेंट (ऑ)**  
 स्पर्श रेखा 968 26  
**टैट (ऑ)**  
 तबू 600 19  
**टैट**  
 टैट 298 16 ⇐  
**टैडर (ऑ)**  
 निविदा 664 8  
 नौका सूची 1072 3  
 रक्षा नौका 1072 32  
**टैडम (ऑ)**  
 टमटम 1071 40  
**टैपरेचर (ऑ)**  
 ज्वर ताप 163 21  
 तापमान 103 2  
**टैपलेट (ऑ)**  
 फोर्मेट 520 11  
**टैपो (ऑ)**  
 समीत गति 458 7  
**टैकल (ऑ)**  
 जलयान उपकरण 1073 1  
 जलयान रस्सी 1073 16  
**टैक्ट (ऑ)**  
 युक्ति 517 1

**टैक्निकल (ऑ)**  
 पारिभाषिक 317 15  
**टैक्नीक (ऑ)**  
 तकनीक 514 4  
**टैक्नीकल (ऑ)**  
 तकनीकी 514 15  
**टैक्शाघर (ऑ)**  
 कपड़ा बुनावट 576 11  
 रचना विन्यास 527.8  
**टैक्स (ऑ)**  
 कर 647 2  
**टैक्स आय**  
 राजस्व 647 1  
**टैक्स कलक्टर (ऑ)**  
 कर सग्राहक 647 34  
**टैक्स घुराना**  
 कर घुराना 865 17  
**टैक्स चोर**  
 कर चोर 865 2  
**टैक्स चोरी**  
 कर चोरी 865 1  
**टैक्स रीअलाइज़ेशन (ऑ)**  
 कर सग्राह 647 33  
**टैक्सी**  
 टैक्सी 1068 12 ⇐  
 टैक्सी 1071 59 ⇐  
**टैक्सी (ऑ)**  
 टैक्सी 1068 12  
 टैक्सी 1071 59  
**टैक्सीइंग**  
 टैक्सीइंग 1081 22 ⇐  
**टैक्सीइंग (ऑ)**  
 टैक्सीइंग 1081 22  
**टैक्सी ड्राइवर**  
 टैक्सी ड्राइवर 1079.15 ⇐  
**टैक्सी ड्राइवर (ऑ)**  
 टैक्सी ड्राइवर 1079 15  
**टैक्सी परिवहन**  
 टैक्सी सेवा 1068 4  
**टैक्सी वाला**  
 टैक्सी ड्राइवर 1079 15  
**टैक्सी सर्विस (ऑ)**  
 टैक्सी सेवा 1068 4  
**टैक्सी सेवा**  
 टैक्सी सेवा 1068 4 ⇐  
**टैक्सेशन (ऑ)**  
 कराधान 647 31  
**टैक्स्ट (ऑ)**  
 पाठ 412 31  
 मुद्रण पांडुलिपि 412 30  
**टैक्स्ट बुक (ऑ)**  
 पाठ्य पुस्तक 322 2  
**टैक्स्टाइल (ऑ)**  
 वस्त्र 579 1  
**टैग**  
 टैग 417 4 ⇐  
**टैग (ऑ)**  
 टैग 417 4

**प्रतीक चिह्न 408.2**  
**टैटू करना**  
 गुदाई करना 406 39  
**टैटूपैक (ऑ)**  
 पैक प्रकार सूची 1014.3  
**टैन कर्मांडमेंट्स अवतरण**  
 मूसा: जल्बए तूर 791.24  
**टैनडैम (ऑ)**  
 जोत टनडम 1071.34  
**टैनिस**  
 टैनिस 477.6 ⇐  
**टैनिस (ऑ)**  
 टैनिस 477.6  
**टैनिस कोर्ट**  
 टैनिस कोर्ट 482.8 ⇐  
**टैनिस कोर्ट (ऑ)**  
 टैनिस कोर्ट 482.8  
**टैनिस मैदान**  
 टैनिस कोर्ट 482 8  
**टैपेट गति**  
 टैपेट गति 1035 4 ⇐  
**टैबलेट (ऑ)**  
 टिकिया 977 13  
 वटी 176 25  
**टैम**  
 घड़ी समय 50 3  
**टैर (ऑ)**  
 वाहित्र भार 959 59  
**टैरिलीन**  
 टैरिलीन 569 16 ⇐  
**टैरिलीन (ऑ)**  
 टैरिलीन 569 16  
**टैरीकाट**  
 टैरीकाट 580 17 ⇐  
**टैरीकाट (ऑ)**  
 टैरीकाट 580 17  
**टैरीलीन**  
 टैरीलीन 580 19 ⇐  
**टैरीलीन (ऑ)**  
 टैरिलीन 569 16  
 टैरीलीन 580 19  
 रासायनिक वस्त्र सूची 579 15  
**टैरीवुल**  
 टैरीवुल 580 18 ⇐  
**टैरीवुल (ऑ)**  
 टैरीवुल 580 18  
**टैरीसिल्क**  
 टैरीसिल्क 580 20 ⇐  
**टैरीसिल्क (ऑ)**  
 टैरीसिल्क 580.20  
**टैलर**  
 टैलर 630 14 ⇐  
**टैलर (ऑ)**  
 टैलर 630.14  
**टैलिविज़न (ऑ)**  
 टैलीविज़न 472.22  
**टैलिविज़न परदा**  
 टीवी स्क्रीन 606 6

## टैलिस्कोप (अं)

### टैलिस्कोप (अं)

दूरबीन 283.8

### टैलीविज़न

टैलीविज़न 472.22 ⇨

### टैलीविज़न एंटेना

टैलीविज़न एंटेना 472.27 ⇨

### टैलीविज़न एंटेना (अं)

टैलीविज़न एंटेना 472.27

### टैलीविज़न चैनल

टैलीविज़न चैनल 472.26 ⇨

### टैलीविज़न चैनल (अं)

टैलीविज़न चैनल 472.26

### टैलीविज़न ट्यूब (अं)

टैलीविज़न ट्यूब 472.29

### टैलीविज़न सैट

टैलीविज़न सैट 472.25 ⇨

### टैल्बोटपत्र (अं)

फ्रेटोग्राफी प्राबिक विधि सूची 405.5

### टैस्ट (अं)

शिक्षा परीक्षा 322.13

### टैस्ट प्रलाइट (अं)

परख उद्धान 1081.14

### टैस्टार्मेट

टैस्टार्मेट 739.10 ⇨

### टैस्टार्मेट (अं)

टैस्टार्मेट 739.10

मृत्यु पत्र 623.17

### टॉच

कटाक्ष 844.3

### टॉचना

कटाक्ष करना 844.7

### टॉचना

गड़ाना 1016.38

गुदाई करना 406.39

### टॉट

अगला झुकाव 1073.21

घोष 143.5

### टॉटी

घोष 143.5

धुंध 143.6

नल टोटी 19.29

बरतन. टोटी 680.24

### टॉटीदार छोटा घड़ा

करवा 679.12

### टॉटीदार झारी

टॉटीदार झारी 679.20 ⇨

### टो (अं)

जूताग्र 588.34

### टोइंग (अं)

नीका कर्षण 1080.3

### टोक

क्रताकलामी 435.2

निषेध 880.1

हस्तक्षेप 1047.13

### टोकन (अं)

पदक 857.7

प्रतीक 408.1

### टोकना

आपत्ति करना 326.12

क्रताकलामी करना 435.18

टोकना 679.31 ⇨

टोकना 677.1

देगघा 682.12

दोष देखना 843.18

धातु घट 679.6

बड़ा घड़ा 679.3

हस्तक्षेप करना 1047.20

### टोकनी

टोकनी 679.32 ⇨

देगघी 682.11

धातु घट 679.6

हंडिया 679.21

### टोकने वाला

हस्तक्षेप कर्ता 1047.30

### टोकना

टोकना 677.1 ⇨

### टोकरीया

टोकरी 677.5

### टोकरी

टोकरी 677.5 ⇨

फेरी दुकान 662.3

हथेदार टोकरी 677.1

### टोकरी वाला

फेरी वाला 661.14

### टोकू

हस्तक्षेप कर्ता 1047.30

### टोटका

टोना टोटका 759.1

शोबदा 473.26

### टोटका करना

टोना करना 759.16

### टोटका कर्ता

टोना कर्ता 759.2

### टोटका कृत

टोना कृत 759.19

### टोटकाहाई

टोना कर्ता 759.2

### टोटकेबाज़

शोबदेबाज़ 474.41

### टोटकेबाज़ी

शोबदेबाज़ी 473.27

### टोटल (अं)

जोड़ फल 954.3

### टोटल

अनाज खंड 192.1

अपर्याप्तता 942.3

अभावग्रस्तता 627.2

अल्पता 942.1

खंड 938.1

बदूक कारतूस 927.10

हानि 646.7

### टोका

टोका 611.23 ⇨

### टोकी

राग रागिनी सूची 457.24

स्वतंत्रता विरोधी 904.15

### टोकी बच्चा

स्वतंत्रता विरोधी 904.15

### टोना (अं)

कठ स्वर 459.31

तान 458.15

स्वर अलंकार 465.10

स्वर गाप 459.16

### टोनाहा [टोनाहाई]

टोना कर्ता 759.2

### टोना

टटोलना 336.21

टोना टोटका 759.1

टोहना 336.22

### टोना करना

टोना करना 759.16 ⇨

### टोना कर्ता

टोना कर्ता 759.2 ⇨

### टोना कृत

टोना कृत 759.19 ⇨

### टोना टोटका

टोना टोटका 759.1 ⇨

### टोना टोटका सूची

टोना टोटका सूची 759.3 ⇨

### टोनिक

टोनिक 176.18 ⇨

### टोनिक (अं)

टोनिक 176.18

### टोप

कच्छप पृष्ठ 134.19

टोप 584.3 ⇨

पोला 675.8

भिगीना 682.17

शिर कवच 921.5

### टोप टोपी: कलगी

टोप टोपी कलगी 584.19 ⇨

### टोप टोपी: चंदवा

टोप टोपी चंदवा 584.20 ⇨

### टोप टोपी: तुरा

टोप टोपी तुरा 584.21 ⇨

### टोप टोपी: बाड़

टोप टोपी बाड़ 584.22 ⇨

### टोपा

टोपा 584.5 ⇨

### टोपाज (अं)

रत्न सूची 96.5

### टोपी

टोपी 584.7 ⇨

दक्कन 675.6

पोला 675.8

### टोबा

टीला 16.1

### टोरा

सूत तराजू 962.14

### टोरी

स्वतंत्रता विरोधी 904.15

### टोल

दल 691.1

### टोला

छोटा ग्राम 620.4

दल 691.1

महल्ला 619.6

शहरी सड़क 1063.37

समूह 690.1

### टोली

खेल टोली 475.19

दल 691.1

दस्ता 932.24

पशु समूह 690.9

मडली 691.5

मित्र मडली 705.4

यात्री दल 1088.5

समूह 690.1

सार्थ 657.13

### टोली अध्यक्ष

टोली अध्यक्ष 475.21 ⇨

### टोली नेता

टोली नेता 475.20 ⇨

### टोस्ट

टोस्ट 202.32 ⇨

### टोस्ट (अं)

जामे सेहत 209.24

टोस्ट 202.32

### टोस्टर

टोस्टर 109.20 ⇨

### टोस्टर (अं)

टोस्टर 109.20

### टोस्टिंग

टोस्टिंग 195.25 ⇨

### टोस्टिंग (अं)

टोस्टिंग 195.25

सिकाई 195.28

### टोह

अनुसंधान 307.4

आहट 297.1

खोज 336.4

गुप्तचरी 866.10

टटोल 336.11

टोह 336.12 ⇨

पगधिहन तलाश 336.10

सुराग 867.1

### टोहना

आहट लेना 297.42

गुप्तचरी करना 866.20

टटोलना 336.21

टोहना 336.22 ⇨

पगधिहन तलाशना 336.20

पूछना 333.19

### टोह लेना

टोहना 336.22

### टोहा [टोही]

प्रतिलब्ध 863.8

### टोहिया

गुप्तचर 866.12

टोही 336.27

टोही  
गुप्तचर 866 12  
टोही 336.27 ⇨  
पगचिह्न तलाश कर्ता 336 26  
बटमार 864.34  
टोही दस्ता  
अग्रगामी सेना 933 2  
टोंगा (अं)  
तोंगा 1071 38  
टोक्सिक (अं)  
विषजन्य 177 10  
टोक्सिन (अं)  
विषजन्य पदार्थ 177 5  
टोक्सिसिटी (अं)  
विषजन्यता 177 4  
टोफी  
टोफी 203 54 ⇨  
टोफी (अं)  
टोफी 203 54  
टोरनेडो (अं)  
भेंवर वात 85 11  
टोर्च लैंप (अं)  
टाच 285 8  
टोवर  
टोवर 951 9 ⇨  
टोवर (अं)  
टोवर 951 9  
टोवल (अं)  
तोलिया 221 16  
ट्यूजडे (अं)  
मंगलवार 46 5  
ट्यूटर  
ट्यूटर 323.23 ⇨  
ट्यूटर (अं)  
अध्यापक 323 8  
ट्यून (अं)  
संगीत तर्ज 458 14  
ट्यूब  
ट्यूब 1077 10 ⇨  
ट्यूब (अं)  
ट्यूब 1077 10  
ट्यूब लाइट 285.24  
भूमिगत रेलमार्ग 1066 19  
ट्यूब लाइट (अं)  
ट्यूब लाइट 285 24  
ट्यूब वैल  
ट्यूब वैल 19.15 ⇨  
ट्यूब वैल (अं)  
ट्यूब वैल 19 15  
ट्रक (अं)  
संदूक 676.15  
ट्रक रोड (अं)  
राष्ट्रीय राजमार्ग 1083.40  
ट्रक लाइन (अं)  
भेन लाइन 1086 17  
ट्रक्स (अं)  
निकर 586.2

ट्रंप (अं)  
तुरुप 479.19  
ट्रक  
ट्रक 1071.10 ⇨  
ट्रक (अं)  
ट्रक 1071 10  
भार यान 1071 2  
ट्रन्यन (अं)  
विवर्तुल 1077 17  
ट्रस्ट (अं)  
न्यास 692 8  
ट्रांजिट परमिट (अं)  
मार्गानुमति पत्र 1092 9  
ट्रांजिट में होना  
संक्रमण करना 1091 7  
ट्रांजिस्टर (अं)  
ट्रांजिस्टर रेडियो 472 32  
ट्रांजिस्टर रेडियो  
ट्रांजिस्टर रेडियो 472.32 ⇨  
ट्रांसपेरेंसी  
ट्रांसपेरेंसी 405 9 ⇨  
ट्रांसपेरेंसी (अं)  
ट्रांसपेरेंसी 405 9  
ट्रांसपोर्ट (अं)  
परिवहन 1068 1  
यान 1070 1  
ट्रांसपोर्ट नगर  
ट्रांसपोर्ट नगर 1069.2 ⇨  
ट्रांसपोर्ट सर्विस (अं)  
परिवहन सेवा 1088 4  
ट्रांसक्र (अं)  
स्थानांतरण 653 19  
ट्रांसलेशन (अं)  
अनुवाद 427 6  
ट्रांस्काइबर (अं)  
प्रतिलिपिक 414 2  
ट्राउट  
ट्राउट 125.6 ⇨  
ट्राउट (अं)  
ट्राउट 125 6  
ट्राम (अं)  
ट्राम गाड़ी 1071 62  
ट्राम गाड़ी  
ट्राम गाड़ी 1071.62 ⇨  
ट्राम पटरि  
ट्राम मार्ग 1066.13  
ट्राम पथ  
ट्राम मार्ग 1066 13  
ट्राम मार्ग  
ट्राम मार्ग 1066 13 ⇨  
ट्राम लाइन (अं)  
ट्राम मार्ग 1066 13  
ट्राम वे (अं)  
ट्राम मार्ग 1066.13  
ट्राय भार  
रत्न भार पद्धति 962.62  
ट्रिगोनोमीटरी (अं)  
त्रिकोण मिति 956.4

ट्रिगर  
ट्रिगर 1046.10 ⇨  
ट्रिगर (अं)  
ट्रिगर 1046 10  
बंदूक घोड़ा 927 7  
ट्रिगरन  
ट्रिगरन 1046.11 ⇨  
ट्रिगारिंग (अं)  
ट्रिगरन 1046 11  
ट्रिगदिन  
टनटन 296 10  
ट्रिनिटी (अं)  
ईसाई त्रिमूर्ति 765 2  
ट्रिप  
ट्रिप 1087 11 ⇨  
ट्रिप (अं)  
ट्रिप 1087.11  
ट्रीटमेंट (अं)  
कला शैली 397 14  
ट्रीटी (अं)  
संधि 906 5  
ट्रे  
ट्रे 685.10 ⇨  
ट्रे (अं)  
ट्रे 685.10  
ट्रेड (अं)  
व्यापार 657.1  
ट्रेड एंक्वम (अं)  
व्यापार चिह्न 408 3  
ट्रेडनेम  
ट्रेडनेम 621.16 ⇨  
ट्रेडनेम (अं)  
ट्रेडनेम 621.16  
ट्रेड फेअर (अं)  
मेला बाजार 663.10  
ट्रेडमार्क  
ट्रेडमार्क 621 17 ⇨  
ट्रेडमार्क (अं)  
ट्रेडमार्क 621 17  
ट्रेड युनियन (अं)  
कर्म संघ 692 16  
भ्रमिक संघ 692 19  
ट्रेडर (अं)  
विपणक 658.2  
ट्रेन (अं)  
रेलगाड़ी 1071.86  
ट्रेन करना  
जीव प्रशिक्षण करना 555.30  
प्रशिक्षित करना 321.33  
ट्रेनर (अं)  
प्रशिक्षक 323.21  
ट्रेनिंग (अं)  
प्रशिक्षण 321.20  
ट्रेनिंग प्लेन (अं)  
प्रशिक्षण यान 1074 16  
ट्रेनी (अं)  
प्रशिक्षु 321 47

ट्रेन्ड (अं)  
प्रशिक्षित 321.46  
ट्रेलर  
ट्रेलर 472.8 ⇨  
ट्रेलर 1071.11 ⇨  
ट्रेलर (अं)  
अनुयायन 1073.9  
ट्रेलर 1071 11  
ट्रेलर 472 8  
पूर्व झलक 520 12  
ट्रेस (अं)  
पुट 1008.6  
ट्रेस ऐलिमेंट (अं)  
सूक्ष्म मात्रिक तत्त्व 1008 8  
ट्रेस (अं)  
सैनिक खात 604.21  
ट्रेक (अं)  
दोड़ मार्ग 1063 26  
दोड़ मैदान 1063 27  
ट्रेक्टर  
ट्रेक्टर 563.15 ⇨  
ट्रेक्टर (अं)  
अग्रयान 1070 8  
ट्रेक्टर 563 15  
ट्रेक्शन (अं)  
कर्षण 1051 7  
ट्रेज़रर (अं)  
कोशाध्यक्ष 630 12  
ट्रेज़री (अं)  
कोशागार 630 3  
ट्रेजेडी  
ट्रेजेडी 463 3 ⇨  
ट्रेजेडी (अं)  
ट्रेजेडी 463 3  
ट्रेडल (अं)  
मशीन. पदाग्रय 596.22  
ट्रेडीशानल (अं)  
पारंपरिक 795 13  
ट्रेपीज़ (अं)  
सरकस झूला 1034.8  
ट्रेफिक (अं)  
यातायात 1067 1  
ट्रेफिक आइलैंड (अं)  
रोड आइलैंड 1064.7  
ट्रेफिक कंट्रोल (अं)  
यातायात नियंत्रण 1087.2  
ट्रेफिक डिपार्टमेंट (अं)  
यातायात विभाग 1067.8  
ट्रेफिक सिबल (अं)  
यातायात चिह्न 1087.9  
ट्रेफिक सिगनल (अं)  
यातायात संकेत 1087.12  
ट्रेबल (अं)  
यात्रा 1087.1  
ट्रेबल अलाउंस (अं)  
यात्रा भत्ता 643.39  
ट्रेबल एजेंट  
ट्रेबल एजेंट 1090.16 ⇨

## ट्रेवल एजेंट (अं)

ट्रेवल एजेंट (अं)

ट्रेवल एजेंट 1090 16

ट्रेवल एजेंसी

ट्रेवल एजेंसी 1090.15 ⇨

ट्रेवल एजेंसी (अं)

ट्रेवल एजेंसी 1090 15

ट्रेवलर (अं)

यात्री 1087.2

ट्रेवलिंग सेल्समैन

ट्रेवलिंग सेल्समैन 661 18 ⇨

ट्रेवलिंग सेल्समैन (अं)

ट्रेवलिंग सेल्समैन 861 18

ट्रेसपास (अं)

अतिघार 861 8

ट्रीशका (कस)

स्लेज 588 40

ट्रीफ़ी

ट्रीफ़ी 857.17 ⇨

ट्रीफ़ी (अं)

ट्रीफ़ी 857 17

ट्रीय ऑस

ट्रीय ऑस 962 38 ⇨

ट्रीस्वर (अं)

मधुआरी नाव 1072 30

ट्रीली (अं)

केबल ट्रेन 1071 65

ट्रीली बस 1071 63

ट्रीली बस

ट्रीली बस 1071 63 ⇨

ट्रीली बस (अं)

ट्रीली बस 1071 63

ट्रीबल (अं)

करनी 559 5

ट्रिबल

ट्रिबल 580.21 ⇨

ट्रिबल (अं)

दसूती 580 26

पट्टू 580 29

ट्रिबल लाइट

ट्रिबल लाइट 285 24 ⇨

## ठ

ठठ

लूला 153 18

शाखाहीन 114 16

ठठार

कंगाल 827.21

शाखाहीन 114 16

सारहीन 84.20

ठठी

दुग्धहीन 554 29

ठठ

जुकाम 163 16

शीत काल 53 1

ठठक

शीतलता 105 1

ठठ पढ़ना

शीत काल होना 53 11

ठठ लगना

ठिठुरना 105 18

ठठका (ठठी)

अनुष्ण 104 19

अप्रबल 488 14

क्रोधहीन 372 13

छायादार 286 18

ठठा (ठठी) 197 41 ⇨

प्रशमित 372 10

बुझा [बुझी] 108 18

शात 372 9

शीत कालीन 53 14

शीतल 105 19

सूती 568 15

स्फूर्तिहीन 492 14

ठठकाई

शरबत 208 6

ठठका कपड़ा

कपास वस्त्र 579 11

ठठका कमरा

शीतल कक्ष 614 7

ठठका करना

आग बुझाना 108 12

ठठका गोदाम

कोल्ड स्टोरेज 670 19

ठठका ठार

अति शीतल 105.20

ठठकाठार

ठठाठार 197 42 ⇨

ठठका ठार [ठठी ठार]

हिमित 105 23

ठठका तार

ठठा तार 102.10 ⇨

ठठका पढ़ना

उत्साह भंग होना 492 8

ठठका पढ़ना

क्रोध मिटना 372.7

मरना 249 18

ठठकापन

स्फूर्तिहीनता 492 3

ठठका पेय

शीतल पेय 208 3

ठठका होना

प्रशमित होना 372.6

ठठी

ठिठुरन 105.4

शीत काल 53 1

हिमाघात 264.10

ठठी जलवायु

शीतल जलवायु 51.2

ठठी बोलल

धरमस 678 12

ठठी बोलली

ऐरेटिड वाटर 208 8

ठठी सड़क

ठठी सड़क 1063 21 ⇨

ठठी सौंस

आह 386 4

ठठी सौंस लेना

आह भरना 386 18

ठठ

शीत काल 53 1

ठठक

ठिठुरन 105 4

ठठका [ठठी]

ठठा [ठठी] 197 41

शीतलित 105 21

ठठाठार

ठठाठार 197 42

ठठक

दस्तक 296 5

ठठकठक

खटखटाहट 297.6

ठठककाहट 297.24

ठठकठकाहट 297 26

दस्तक 296 5

ठठकठकाहट

खटखटाहट 297 6

ठठकठकाहट 297 24 ⇨

ठठकठीआ

करताल 461.25

ठठकुरसुहाती

चाटुकारितापूर्ण 841.34

चाटुक्ति 841 16

ठठकुरसुहाती कहना

चाटुकारिता करना 841.26

ठठकुराई

प्रधानता 852 3

ठठकुरानी

क्षत्रिय स्त्री 731 20

ठठकुरायत

प्रताप 849 5

प्रधानता 852 3

हेकड़ी 734 10

ठठकोरी

टेक उडा 596 5

बैसाखी 596 14

ठठग

घोर 864.3

छली 827.24

ठठग 864.32 ⇨

बटमार 864.34

लुटेरा 864 22

ठठग [ठठगनी]

सम्मोहन कर्ता 367.8

ठठगाई

छल 827 7

बटमारी 864.33

ठठगण

मात्रिक गण 374 452 45

ठठगना

छल करना 827.14

ठठगना 864.49 ⇨

प्रेमानुरक्त करना 368.14

मुनाफ़ाख़ोरी करना 865.22

ठठगने वाला

ठठग 864 32

ठठगा [ठठगी]

छलित 827 23

ठठगा [ठठगी] 864 54 ⇨

ठठगाई

ठठगी 864 31

ठठगित

ठठगा [ठठगी] 864 54

ठठगिया

छली 827 24

बटमार 864 34

सम्मोहन कर्ता 367.8

ठठगी

छल 827 7

ठठगी 864 31 ⇨

बटमारी 864 33

मुनाफ़ाख़ोरी 865 16

ठठगीरी

वशीकरण 758.22

सम्मोहन 367 2

ठठगना

प्रतिरोध करना 915 4

विनोद करना 385 9

ठठरी

अस्थि पंजर 133 5

खरिया 673 19

टट्टर 605 4

ठठट

अव्यवस्थित समूह 690 4

ठठटा

विनोद 385 1

ठठठ

डेर 686.6

ठठठा

उपहास 844.1

नटखटपन 860 10

विनोद 385 1

व्यंग्य 844.5

ठठठेबाज़

विनोदी 385.13

ठठठेबाज़ी

विनोद प्रेम 385.2

ठठरी

अस्थि पंजर 133 5

खरिया 673 19

ठठगना

अट्टहास करना 384.8

ठठेरगीरी

कास्य कर्म 680.30

ठठेर बाज़ार

बरतन बाज़ार 683 18

ठठेरबाज़ा

बरतन बाज़ार 683.18

ठठेरा [ठठेरिन]

कास्यकार 680.31



**ठन**

ठनठनाहट 297 25

**ठनकना**

आशकित होना 377 5

**ठन कर**

सत्रदत्त 491 20

**ठनठन**

खनखनाहट 297 8

ठनठनाहट 297 25

सारहीन 84 20

**ठनठनाहट**

खनखनाहट 297 8

ठनठनाहट 297 25

**ठनना**

युद्ध होना 905 30

सत्रदत्त होना 491 8

**ठनाठनी**

ठनाठनी 108 6

**ठप**

विकृत (यत्र) 536 10

विरामित 1048 6

**ठप होना**

यत्र विकृत होना 536 5

**ठप्पा**

छीपी ठप्पा 414 13

ठप्पा 414 12

मुद्रण श्लोक 419 11

मुद्राक 414 17

**ठप्पा मारना**

ठप्पा लगाना 414 22

**ठप्पा लगाना**

ठप्पा लगाना 414 22

**ठमक**

इतराहट 860 5

चीक 379 3

तुमक 1084 8

सहम 395 3

**ठमकना**

इतराना 860 15

तुमकना 1084 31

नाचना 462 26

सहमना 395 15

**ठमकाना**

बजाना 461 103

**ठमकारना**

बजाना 461 103

**ठर्पा**

देसी शराब 209 3

**ठर्पा [ठर्पी]**

धीड़ा [धीड़ी] 197 36

**ठकुआ**

अप्रयत्नशील 490 9

**ठवन**

खड़ा रहना मुद्रा 1029 4

बैठना मुद्रा 1028 4

**ठबनि**

खड़ा रहना मुद्रा 1029 4

बैठना मुद्रा 1028 4

**ठस**

अत्याधिक जनाकीर्ण 616 30

अप्रवेश्य 519 24

तुँसा [तुँसी] 1004 14

ठोस 269 23

दृक्काय 160 12

वज्रधी 302 9

सघन बुना 576 30

**ठसक**

इतराहट 860 5

नाज़ नख़रा 860 1

**ठसकना**

इतराना 860 15

**ठसका**

इतराहट 860 5

ठोस 1051 17

ठोकर 1084 10

नाज़ नख़रा 860 1

**ठसकेदार**

इतराहट 860 20

**ठसके वाला**

इतराहट 860 20

**ठसके वाली**

रूप अभिधानिनी 860 22

**ठसपन**

सघन बुनावट 576 13

**ठसा [ठसी]**

तुँसा [तुँसी] 1004 14

सघन बुना 576 30

**ठसाई**

तुँसाई 1004 3

**ठसाठस**

अत्याधिक जनाकीर्ण 616 30

तुँसातुँस 1004 18

**ठस्सा**

इतराहट 860 5

नाज़ नख़रा 860 1

**ठहर जाना**

गति स्तभन होना 1047 17

**ठहर ठहर कर**

सविरामत 1048 8

**ठहरन**

निश्चलन 1038 3

विरामण 1048 2

**ठहरना**

निश्चल होना 1038 5

विराम होना 1048 3

सौदा तय होना 658 12

**ठहरा [ठहरी]**

अनुबधित 339 32

अप्रवाहित (जल) 21 40

निश्चल 1038 8

प्रवाहहीन 1041 9

विरामित 1048 6

विलंबित 495 11

**ठहराक**

दीर्घ कालीन 37 10

**ठहराना**

धरना 1019 10

निर्धारित करना 328 9

विराम करना 1048 4

**ठहराने वाला**

विराम कर्ता 1048 7

**ठहरा पानी**

प्रवाहहीन जल 21 12

**ठहराव**

अनुबध 339 1

अभिसार स्थल 237 2

निर्णय 328 4

निश्चलता 1038 2

वाग्दान 800 47

विराम 1048 1

विलंब 495 1

सकेत आवाहन 1055 3

सहमति 337 3

सामजस्य स्थापना 702 2

सौदा 658 3

**ठहराव स्थल**

परिवहन स्थल 1069 1

**ठहरो**

लाल बत्ती 1067 14

**ठहरीनी**

अनुबध 339 1

वर रोक 800 45

वाग्दान 800 47

**ठहाका**

अट्टहास 384 2

**ठहाका लगाना**

अट्टहास करना 384 8

**ठौ**

स्थान 33 :

**ठौँ**

निकट मे 31 9

**ठौठ**

दुग्धहीन 554 29

सारहीन 84 20

**ठौँव**

अवसर 70 1

गृह 601 1

पता 444 13

शरण स्थल 910 5

स्थान 33 1

**ठौँव ठिकाना**

पता निर्देश 444 14

**ठौँस**

• तुँस 1004 2

**ठौँसदूस**

तुँस 1004 2

**ठौँसना**

तुँसना 1004 10

**ठाकुर**

देव मूर्ति 746 1

बड़ा ज़मींदार 553 15

मुखिया 852 7

स्वामी 621 2

**ठाकुर [ठाकुरानी]**

राज [रानी] पदनाम (कवच) कुली 882 10

**ठाकुर जी**

भुजगा 126 61

**ठाकुरद्वारा**

जगन्नाथ मंदिर 745 34

देव मंदिर 745 30

**ठाट**

अधिकता 944 1

टट्टर 605 4

थाट 458 19

नृत्य मुद्रा 464 35

विलास 363 6

सजधज 226 6

सितार तार 461 98

**ठाटदार**

तड़कभड़कदार 226 14

धनाढ्योदित 626 17

राजा योग्य 882 35

वैभवशाली 226 15

**ठाटबंदी**

मेहराब निर्माण 600 7

**ठाटबाट**

तड़क भड़क 226 4

सजधज 226 6

**ठाटबाटदार**

तड़कभड़कदार 226 14

**ठाट मारना**

विलास करना 363 12

**ठाटें मारना**

तरंगित होना 1040 29

**ठाटें लेना**

तरंगित होना 1040 29

**ठाठ**

अधिकता 944 1

आयोजन 655 3

उद्यतता 491 3

ऊँची लहर 1040 19

खड़ा रहना मुद्रा 1029 4

टट्टर 605 4

दल 691 1

नृत्य मुद्रा 464 35

राजसी गति 1084 3

सौंड बैल. कूब 147 10

सितार तार 461 98

**ठाठ की चाल**

राजसी गति 1084 3

**ठाठबाट**

राजसी गति 1084 3

सजधज 226 6

**ठान**

अदा 880 4

करण 505 1

कलह 708 1

कार्य आरम्भ 521 1

ठनाठनी 708 6

परिवहन स्थल 1069 1

सकल्प 500 1

## ठान कर

### ठान कर

संकल्पपूर्वक 500.16

### ठानना

कलह करना 708 9

कार्य आरंभ करना 521 5

युद्ध आरंभ करना 907 35

शत्रुता करना 706 12

संकल्प करना 500 6

### ठाप

ठाप 414.11 ⇨

### ठापना

ठप्पा लगाना 414 22

### ठापा

ठप्पा 414 12

### ठाम

स्थान 33 1

### ठार

अति शीतल 105.20

तुषार पात 90 9

### ठाला

व्यापारिक मंदी 664 13

### ठाला [ठाली]

आजीविकाहीन 649 11

### ठाली

आजीविकाहीन 649 11

### ठाह

विलंबित गति 458 9

### ठिगना

ठिगना 154.18 ⇨

### ठिगना [ठिगनी]

अल्पोच्च 982 9

ठिगना 154 18

### ठिगना क्रद

ठिगना क्रद 154 5 ⇨

### ठिगना पतला

ठिगना पतला 154.20 ⇨

### ठिगना पतला [ठिगनी पतली]

ठिगना पतला 154 20

### ठिगनापन

ठिगना क्रद 154 5

### ठिगनापन (दे. ठिगना क्रद)

अल्पोच्चता 982 2

### ठिगना मोटा [ठिगनी मोटी]

ठिगना मोटा [ठिगनी मोटी] 154 21 ⇨

### ठिगना व्यक्ति

ठिगना व्यक्ति 154 6 ⇨

### ठिगा [ठिगी]

ठिगना 154 18

### ठिगू

ठिगना व्यक्ति 154 6

### ठिकाना

क्रम 991.1

गंतव्य स्थान 1100 2

जागीर 553 16

पता निर्देश 444.14

परिवहन स्थल 1069 1

मात्रा 948.3

विश्वास 340 1

व्यवस्था 893 5

शरण 910 4

सीमात 1001 19

सीमा 1001 1

स्थान 33 1

### ठिकाने

स्थानस्थल 1020 13

### ठिकाने पर

स्थानस्थल 1020 13

### ठिकाने लगाना

स्थित करना 1020 7

### ठिठक

हिचक 501 3

### ठिठकना

आतंकित होना 395 16

आश्चर्य होना 379 5

सावधान होना 497 3

हिचकना 501 6

### ठिठकू

हिचकशील 501 10

### ठितुरता [ठितुरती]

ठितुरता [ठितुरती] 105 24 ⇨

### ठितुरती सर्दी

कड़ी सर्दी 53 2

### ठितुरन

ठितुरन 105 4 ⇨

### ठितुरना

ठितुरना 105.18 ⇨

### ठिठोली

विनोद 385 1

### ठिठोलीबाज़

विनोदी 385 13

### ठिनक

ठिनक 386.7 ⇨

### ठिनकना

ठिनकना 386 21 ⇨

### ठिर

तुषार पात 90 9

### ठिरना

ठितुरना 105 18

### ठिलंत

धकेल 1051 12

प्रणोदन शक्ति 1051 2

### ठिलना

धंसना 1031 19

### ठिला [ठिली]

धकेला [धकेली] 1051 39

### ठिलाई

धकेल 1051.12

### ठिलिया

छोटा घड़ा 679.2

### ठिल्ली

छोटा घड़ा 679 2

### ठीक

अवसरानुकूल 70 14

आवश्यकतानुकूल 524 22

उत्तम 313 11

ऊर्ध्वमुख 1023 13

क्रमिक 991 21

चरितार्थ 438.8

धिकित्सित 171 19

तर्कपूर्ण 325 21

नियमानुकूल 879 18

नियमित 879 17

निर्धारित 328.14

नैतिकगापूर्ण 815 5

पक्व 195 77

पर्याप्त 941 6

प्रतिरूपत 967 23

मरम्मत कृत 538 8

मात्रा मे नियत 946 17

लक्ष्य पर 931 26

लक्ष्यानुगामी 931 22

विशुद्ध 219 7

वैध 878 26

व्यवस्थित 893 13

सगत 438 6

सत्यतापूर्ण 820 20

समान 309 22

सही आकार का 961 16

सामयस्यपूर्ण 702 6

हाँ 337 29

### ठीक अवसर

उपयुक्त अवसर 70 3

### ठीक आना

सही आकार होना 961 15

### ठीक उतरना

चरितार्थ होना 438 5

### ठीक करना

चिकित्सा करना 171 16

दंड देना 870 16

मरम्मत करना 538 7

सशोधन करना 537 8

### ठीक जगह

लक्ष्य पर 931 26

### ठीक जाना

लक्ष्य पर जाना 931 18

### ठीक ठाक

मध्यम स्तरीय 313 18

### ठीकठाक

व्यवस्थित 893 13

### ठीक तराजू

ठीक तराजू 962.13 ⇨

### ठीक तौल

ठीक तौल 962.8 ⇨

### ठीक न बैठना

चरितार्थ न होना 439 4

### ठीक न होना

रोगग्रस्त होना 162 4

### ठीक निशाना

सफल लक्ष्य 931.4

### ठीक निशाने पर जाना

लक्ष्य पर जाना 931 18

### ठीक बैठना

सही आकार होना 961.15

### ठीक बैठाना

फ़िट करना 1016 37

### ठीकम ठीक

सही आकार का 961 16

### ठीक मान लेना

विश्वास करना 340 9

### ठीकरा

मिक्षा भांड 642 11

मूद्भाडाश 77 6

रही 526 13

### ठीकरी

रही 526 13

### ठीक वक्रत पर

उपयुक्त अवसर पर 70 16

### ठीक समय पर

समयानुसारत 61 7

### ठीक साइज़

सही आकार 961 2

### ठीक सामने

ठीक सीधे 1098 33

### ठीक सामने की दिशा

सीधे 974 9

### ठीक सीधे

ठीक सीधे 1098 33 ⇨

### ठीक है भाव

सगतता 438 1

### ठीक होना

आरोग्य लाभ होना 171 17

### ठीया

परिवहन स्थल 1069 1

### ठीहा

टेक धूनी 596 4

ठीहा 596 12 ⇨

यज्ञ वेदी 753 24

वर्क बैय 595 38

वेदी 745 45

सीमात 1001 19

### ठुंका [ठुंकी]

गड़ा [गड़ी] 1016 46

### ठुंकाई

गड़ाई 1016 4

ठोक 1051 15

### ठुंठ

पल्लवहीन 115 14

वज्रधी 302 9

शाखापल्लवहीन तना 114.8

### ठुंसना

फूलना 988 8

### ठुंसा [ठुंसी]

ठुंसा [ठुंसी] 1004 14 ⇨

### ठुंसाई

अत्याहार 182 4

ठुंसाई 1004.3 ⇨

### ठुंसाठुंस

ठुंसाठुंस 1004.18 ⇨

### ठुंसाव

फुलाव 988 4

<b>तुकतुक</b>	रुड 147.2	<b>तेल</b>	<b>ठोकर खाना</b>
खटखटाहट 297 6	शाखापल्लवहीन तना 114 8	धकेल 1051.12	ठोकर लगना 1084.33
ठकठकाहट 297 24	शाखाहीन 114 16	प्रणोदन शक्ति 1051.2	<b>ठोकर मारना</b>
तुकतुकाहट 297 26	<b>तूठा [दूठी]</b>	<b>तेलक</b>	पद प्रहार करना 918.29
<b>तुकतुकाहट</b>	लूला 153 18	प्रणोदक 1051 33	<b>ठोकर लगना</b>
खटखटाहट 297.6	सारहीन 84.2C	<b>तेलना</b>	ठोकर लगना 1084.33 ⇌
तुकतुकाहट 297 26 ⇌	<b>तूठी</b>	धकेलना 1051.28	<b>ठोकर लगाना</b>
<b>तुकतुकी</b>	कटा डठल खूँटी 114.2	प्रणोदित करना 1051.19	ठोकर लगाना 1084.34 ⇌
ठकठकाहट 297 24	<b>तूस</b>	<b>तेलपेल</b>	<b>ठोकरें खाना</b>
<b>तुकराना</b>	अत्याहार 182 4	उत्सवपूर्णता 56.2	मार्ग न मिलना 1099 6
अस्वीकार करना 338 18	तूसार्ई 1004 3	<b>तेल यान</b>	मार्ग भ्रम होना 1099 4
उपेक्षा करना 185 5	तूस 1004 2 ⇌	तेला 1071 6	<b>ठोकाठाकी</b>
ठोकर लगाना 1084 34	<b>तूसन</b>	<b>तेला</b>	ठोक 1051 15
दुतकारना 855 9	तूसार्ई 1004 3	अव्यवस्थित समूह 690 4	<b>ठोठरा [ठोठरी]</b>
<b>तुकराया [तुकरार्ई]</b>	<b>तूसना</b>	तेला 1071 6 ⇌	टूटे दाँत वाला 144.18
अस्वीकृत 338 33	अत्याहार करना 182 11	धक्का 1051 13	<b>ठोकी</b>
पद प्रहारित 918 38	तूसना 1004 10 ⇌	पशु तेला 1071 9	ठोकी 140.20 ⇌
<b>तुकाई</b>	सपोटना 181 48	प्रबल आक्रमण 914.7	<b>ठोकी: गड्डा</b>
ठोक 1051 15	<b>तूसू</b>	प्रवाह 1041 1	ठोकी: गड्डा 140.21 ⇌
<b>तुकाई करना</b>	अत्याहारी 182 15	फेरी दुकान 662 3	<b>ठोकी: बाल</b>
ठोकना 1051 30	<b>तुस</b>	<b>तेला गाड़ी</b>	दाकी 136 3
<b>तुखड़ी</b>	तूस 1004 2	तेला 1071 6	<b>ठोकी</b>
ठोकी 140 20	<b>तुसन</b>	<b>तेला मोटर</b>	ठोकी 140 20
<b>तुनकना</b>	तूसार्ई 1004 3	ट्रक 1071 10	<b>ठोस</b>
ठिनकना 386 21	<b>ठंगा</b>	<b>ठेली</b>	छिद्रहीन 272.9
तुमकना 1084 31	हाथ अँगूठा 150 15	तेला 1071 6	ठोस 269.23 ⇌
<b>तुनतुन</b>	<b>ठंठा</b>	पशु तेला 1071 9	थलीय 25 30
ठनठनाहट 297 25	कर्ण मल 215 8	<b>ठेले वाला</b>	विज्ञान सगत 307 13
ठिनक 386 7	फाहा 174 19	ठेले वाला 1071 7 ⇌	सघन 81.15
<b>तुअक</b>	<b>ठंठी</b>	फेरी वाला 661 14	सारपूर्ण 84 19
ठनठनाहट 297 25	अपिधानित 675 19	<b>ठेस</b>	सुदृढ़ 160 15
तुमक 1084 8	फाहा 174 19	आघात 169 2	<b>ठोस अवस्था</b>
<b>तुमक</b>	<b>ठेका</b>	ठेस 1051 17 ⇌	सघन अवस्था 79 8
तुमक 1084 8 ⇌	अड्डा 696.10	ठोकर 1084 10	<b>ठोस ज़मीन</b>
तुमका 1084 9	ठेका 659 13 ⇌	ठक्का 1051 18	थलीय धरातल 25.3
नर्तन 462 12	तबला बायॉ 461 51	मनोघात 354 3	<b>ठोस पदार्थ</b>
<b>तुमकन</b>	दायित्व 895.1	<b>ठेहरी</b>	सघन पदार्थ 79.9
तुमक 1084 8	मद्य विक्रय स्थल 209 34	चूल टेक 609.17	<b>ठोसपन</b>
<b>तुमकना</b>	<b>ठेका लेना</b>	<b>ठोक</b>	ठोसपन 269.8 ⇌
तुमकना 1084.31 ⇌	ठेका लेना 659 17 ⇌	ठोक 1051 15 ⇌	सघन अवस्था 79.8
नाघना 462 26	<b>ठेकेदार</b>	<b>ठोकना</b>	सुदृढ़ता 160 7
<b>तुमका</b>	ठेकेदार 659.14 ⇌	गहाना 1016.38	<b>ठोस पोला</b>
तुमका 1084.9 ⇌	निर्माण उद्यमी 599.9	ठोकना 1051.30 ⇌	विपरीतता: उपमान सूधी 310.13
तुमका 462.25 ⇌	<b>ठेकेदारी</b>	<b>ठोंग</b>	<b>ठोस सै तरलीभवन</b>
<b>तुमकारना</b>	ठेकेदारी 659 12 ⇌	चोच प्रहार 918.14	द्रवण 80.2
तुमका लगाना 1084 32	निर्माण उद्योग 599 8	<b>ठोंगा</b>	<b>ठीर</b>
<b>तुमका लगाना</b>	<b>ठेके पर काम करना</b>	कोणाकार पुडिया 674.7	उपयुक्त अवसर 70.3
तुमका लगाना 1084.32 ⇌	ठेका लेना 659 17	<b>ठोंसा</b>	उपयुक्त स्थान 70.5
<b>तुमरी</b>	<b>ठेके पर लेना</b>	हाथ अँगूठा 150.15	गृह 601 1
राग गायन शैली सूची 460 39	ठेका लेना 659 17	<b>ठोकना</b>	पता 444.13
<b>तुसातुस</b>	<b>ठेगनी</b>	ठोकना 1051.30	शरण स्थल 910.5
तूसार्तुस 1004 18	टेक डंडा 596 5	<b>ठोकर</b>	स्थान 33.1
<b>तूंग</b>	<b>ठेठ</b>	अहित 712.2	<b>ठीर ठिकाना</b>
चोच प्रहार 918 14	अपरिवर्तित 533.9	आइति 168.1	पता निर्देश 444.14
<b>तूँठ</b>	एकमात्र 948.20	जूताप्र 588.34	
कुदा 597.3	विशुद्ध 219.7	टेक रोज़ा 596.6	
पल्लवहीन 115.14	<b>ठेपी</b>	ठोकर 1084.10 ⇌	
पल्लवहीन वृक्ष 111.26	अपिधानित 675.19	पद प्रहार 918.19	

## डक

- कलम जीभ 416 3  
डक 144.12 ⇨  
डक दश 918 13  
डक दश  
डक दश 918 13 ⇨  
डकदार  
डकने वाला 918 37  
डक मारना  
डक मारना 918 25 ⇨  
डका  
अतिम अवसर 70 7  
ख्याति 847 1  
नगाड़ा 461 58  
डका ध्वनि  
दमदम 296 11  
डका बजना  
ख्याति होना 847 2  
डका बजाना  
घोषणा करना 441 15  
युद्ध आरंभ करना 907 35  
डकिनी  
डाकिनी 786 7  
डकी  
डकने वाला 918 37  
डकी (अँ)  
लाद 478 18  
डके की चोट  
अगुलतः 822 34  
डगर  
गाय मैस 127.9  
पशु 127 1  
पशुधन 127 7  
डगरी  
डाकिनी 786 7  
डगवारा  
कृषि सहयोग सूची 553.28  
डठल  
डठल 114.1 ⇨  
डठलः झका अनाज़  
डठल से झका अनाज़ 187.4  
डठलः पूसा  
डठल पूसा 114.5 ⇨  
डठल से झका अनाज़  
डठल से झका अनाज़ 187.4 ⇨  
डड  
डड 485.9 ⇨  
दड 870 1  
डडपेल  
पहलवान 486.2  
डड बैठक  
डड बैठक 485.8 ⇨  
डडवत  
दडवत 1080.7  
डडवारा  
डडा परकोटा 604.12

## डड सूची

- डड सूची 485 10 ⇨  
डडा  
अक्ष दड 1077 12  
असा 1077 7  
डडा 923 5 ⇨  
डॉड 1073 5  
तराजू डडा 962.21  
दड नीति 819 6  
धातु मेंढी लाठी 923 10  
मुगदर 485 16  
सीढी डडा 613 9  
सोंटा 559 37  
हल लट्ठा 563 13  
डडा डोली  
डडा डोली 476 12 ⇨  
डडाधारी  
लाठीधारी 930 17  
डडा नृत्य  
डाडिया रास 462 10  
डडा परकोटा  
डडा परकोटा 604 12 ⇨  
डडा बरदार  
लाठीधारी 930 17  
डडा बेडी  
डडा बेडी 868 27 ⇨  
डडाल  
नगाड़ा 461 58  
डडी  
डडल 114.1  
डडी 923.7 ⇨  
डोल डग्गा 461 96  
तराजू डडा 962 21  
डडीमार  
कम तौलने वाला 962 4  
डडी मारना  
कम तौलना 962 64  
डडैत  
लाठीधारी 930.17  
डडीत  
दडवत 1060.7  
डड ट्रक (अँ)  
डडपर 1071 12  
डडपर  
डडपर 1071.12 ⇨  
डडपर (अँ)  
डडपर 1071.12  
डडबर  
अभिमान 858.1  
कोलाहल 294 8  
डेर 686.6  
दिखावा 825.1  
धर्म कर्म आडंबर 747.2  
राशि 686.2  
विस्तार 981.2  
शोभा 226.1  
डडबल  
डडबल 485.15 ⇨

## डडली बैठक

- डडक सूची 485 12  
डडबैल (अँ)  
डडबैल 485 15  
डडस  
डॉस 122 27  
मच्छर 122 38  
डडसना  
डक मारना 918 25  
डडसने वाला  
डडसने वाला 918 37 ⇨  
डडकराहट  
रभाहट 298 27  
डडकार  
डदान वायु 245 16  
डडकार जाना  
पूरा खा जाना 181 34  
डडकारः पानी  
पित्त पानी 215 15  
डडकैत  
डकैत 864.20 ⇨  
डडकैती  
डकैती 864 19 ⇨  
डडकैती वृत्ति  
डकैती वृत्ति 864 18 ⇨  
डडग  
एक पद 1083 2  
डडग उठाना  
पदन्यास करना 1083 19  
डडगडग  
डगमगाते 1084 53  
डडगडगाहट  
डगमगाहट 1084.11  
डडगडीर  
डगमगाता [डगमगाती] 1084 46  
डडग प्रति डग  
पद प्रति पद 1083 29  
डडग भरना  
पदन्यास करना 1083 19  
डडग भराई  
पदन्यास 1083 3  
डडगमग  
अबलिच्छ 159.12  
डगमगाते 1084 53  
मदोन्मत्त 211 15  
विचलनशील 501.12  
डडगमगाता [डगमगाती]  
डगमगाता [डगमगाती] 1084.46 ⇨  
मदोन्मत्त 211.15  
डडगमगाते  
डगमगाते 1084.53 ⇨  
डडगमगाना  
डुपेर आना 264.18  
डगमगाना 1084.35 ⇨  
प्रतिरोध क्षीण होना 915.5  
भय कपित होना 395.14  
विचलित होना 501.7

## डगमगाहट

- डगमगाहट 1084 11 ⇨  
धैर्य भंग 395 11  
मद झूम 211 2  
डडगर  
पगडडी 1063 47  
मार्ग 1063 1  
डडग रखना  
पदन्यास करना 1083 19  
डडगर भगर  
डगमगाते 1084 53  
डडग लेना  
पदन्यास करना 1083 19  
डडगरोटाइप (अँ)  
फ़ोटोग्राफ़ी प्राथमिक विधि सूची 405:  
डडग्गा  
डोल डग्गा 461 96  
डडटन  
धैर्य 394 6  
डडटना  
धैर्य धारना 394 11  
प्रतिरोध करना 915 4  
प्रवृत्त होना 502 5  
हठ करना 349 9  
डडटने वाला  
प्रतिरोधी 915 11  
डडटाना  
दृढ़ आधारित करना 1019 12  
डडटाव  
छत चौड़ाई 965 6  
प्रतिरोध 915 1  
डडटे रहना  
धैर्य धारना 394 11  
डडट्टा  
नेचा 213 12  
डडडार  
दक्षियल 136 8  
डडडियल  
दक्षियल 136 8  
डडपट  
डॉट 373 11  
डडपटना  
घुड़कना 373.20  
डॉटना 373 25  
डडपोर शंख  
डींगबाज़ 842 15  
डडपोर शंख 474.31  
डडफ  
डडफ 461.38 ⇨  
डडफला  
डडफ 461.38  
डडफला पहारिणी  
भारत उपमहाद्वीप. पर्वत सूची 17 1  
डडफली  
डडफली 461.40 ⇨  
डडफ बावक  
डडफ बावक 461.39 ⇨

<b>उफालची</b>	<b>उभका [उभकी]</b>	धमकाना 373 26	<b>उंक</b>
उफ वादक 461 39	ताजा [ताजी] 197 43	<b>उरावना [उरावनी]</b>	उंक 283 18 ⇨
<b>उफाली</b>	<b>उभकीरी</b>	देत्यकाय 154 24	पत्री 283 17
उफ वादक 461 39	उडद बड़ी 192 15	भयानक 395 25	<b>उीकना</b>
<b>उब</b>	<b>उमर</b>	भुलहा [भुतही] 759 20	लीघना 1097 12
उब 672 7 ⇨	भगदड़ 916 6	विकराल 154 23	<b>उीट</b>
थैला 673 1	युद्ध पलायन 916 5	<b>उरावनापन</b>	उीट 373 11 ⇨
<b>उबकना</b>	<b>उमरु</b>	भयानकता 395 7	वरा 899 13
टीसना 392 19	उमरु 461 41 ⇨	<b>उरावा</b>	<b>उीट उपट</b>
<b>उबका</b>	<b>उमरु मध्य</b>	कृषि रक्षक पुतला 550 3	उीट 373 11
आशका 377 1	थलप्रीवा 26 11	खटखटा 550 6	<b>उीटना</b>
<b>उबउब</b>	सकीर्ण जल मार्ग 1063 45	दड नीति 819 6	घुडकना 373 20
अधुपूर्ण 387 7	<b>उमरु वादक</b>	धमकी 373 12	उीटना 373 25 ⇨
<b>उबउब करना</b>	शिव 767 1	भयानक वस्तु 395 8	<b>उीटना उपटना</b>
स्पदित होना 1039 14	<b>उमरु</b>	होआ 785 8	उीटना 373 25
<b>उबउबाता [उबउबाती]</b>	उमरु 461 41	<b>उरीआ</b>	<b>उीट फटकार</b>
अधुपूर्ण 387 7	<b>उयन</b>	कृषि रक्षक पुतला 550 3	उीट 373 11
<b>उबउबाना</b>	उड्डयन 1030 11	भयानक वस्तु 395 8	<b>उीटा</b>
ऑसू आना 387 4	<b>उर</b>	होआ 785 8	मकरी 1073 36
टिमटिमाना 287 32	आतकांभुति 353 6	<b>उरीवा</b>	<b>उीटा [उीटी]</b>
<b>उबउबाहट</b>	आशका 377 1	होआ 785 8	उीटा [उीटी] 373 33 ⇨
टिमटिमाहट 287 25	प्रताप 849 5	<b>उल</b>	<b>उीच</b>
<b>उबरा</b>	भय 395 1	झील 18 4	अर्थ दड 870 7
चिलमची 679 27	हिचक 501 3	<b>उलन</b>	उदत 144 5
छिछला गड़दा 15 3	<b>उरता [उरती]</b>	पतन 1031 1	घपू 1073 6
डोगा 679 47	भय कपित 395 20	<b>उलना</b>	डंडा 923 5
दलदल 25 28	<b>उरते</b>	पतन होना 1031 15	उँड 1073 5 ⇨
<b>उबल (अँ)</b>	भयभीतत 395 30	भरा जाना 1004 7	पगडडी 1063 47
किण्वित 195 59	<b>उरते उरते</b>	<b>उला</b>	बागर 552 7
<b>उबल एजेंट (अँ)</b>	आशकितत 377 14	खड 938 1	मेड 551 22
प्रतिगुप्तचर 866 16	भयभीतत 395 30	उला 938 21 ⇨	<b>उीच चक्र</b>
<b>उबल जासूस</b>	<b>उर दूर करना</b>	दोला 938 41	पेडल व्हील 1073 4
प्रतिगुप्तचर 866 16	भयनाश करना 394 12	बॉस बेल टोकरा 677 4	<b>उीच चलाना</b>
<b>उबल जासूसी</b>	<b>उरना</b>	ऊना [ऊनी]	नीकायन करना 1080 31
प्रतिगुप्तचर्या 866 15	उद्दिग्न होना 377 7	अधोक्षित 1052 24	<b>उीच नीका</b>
<b>उबल बैड</b>	पलायन करना 916 10	अनुक्षितिज 1020 12	उँड नीका 1072 6 ⇨
उबल बैड 594 12 ⇨	भयभीत होना 395 13	धातु पिड सूची 976 12	<b>उीका</b>
<b>उबल बैड (अँ)</b>	हिचकना 501 6	पटका [पटकी] 1062 38	खड्ग 924 3
उबल बैड 594 12	<b>उरपना</b>	पतित 1031 24	डडा 923 5
<b>उबल मार्च (अँ)</b>	भयभीत होना 395 13	<b>उलाई</b>	डोंड 1073 5
क्विक मार्च 1083 13	<b>उरपोक</b>	अधोक्षेपण 1052 12	सीमा 1001 1
<b>उबल रोटी</b>	कापुरुष 395 29	अयपातन 1031 3	<b>उडिया</b>
उबल रोटी 202 30 ⇨	पलायनशील 916 18	<b>उलापन</b>	उडिया रास 462 10
<b>उबल स्टोरी (बोलचाल)</b>	<b>उरपोकपना</b>	अनुक्षितिजता 1020 5	<b>उडिया रास</b>
दोखडा भवन 602 22	कापुरुषता 395 12	<b>उलिया</b>	उडिया रास 462 10 ⇨
<b>उबल्स (अँ)</b>	<b>उर मिटाना</b>	उलिया 677 10 ⇨	<b>उीकी</b>
दुकल खेल 475 7	भयनाश करना 394 12	<b>उली</b>	धूला रस्सी 1034 7
<b>उब्बा</b>	<b>उर लगना</b>	उलिया 677 10	<b>उीडी</b>
कटोरदान 676 8	भयभीत होना 395 13	उली 938 22 ⇨	डंडी 923 7
डिब्बा 676 1	<b>उर से काँपना</b>	दोली 938 43	तराजू डडा 962 21
<b>उब्बी</b>	भय कपित होना 395 14	<b>उपना</b>	<b>उीकी</b>
डिविया 676.4	<b>उरा [उरी]</b>	उक मारना 918 25	धकेल बल्ली 597 7
<b>उब्बू</b>	आतकित 395 23	<b>उस्टबिन (अँ)</b>	<b>उीकी</b>
कटोरदान 676 8	भयभीत 395 19	कूडेदानी 218 21	प्रशाखा 114 11
काठ कलछी 681 6	<b>उराऊ</b>	<b>उस्टर</b>	सीधी रेखा 968 16
शिशु 230 3	भयानक 395 25	उस्टर 416 29 ⇨	<b>उांडी कूच</b>
<b>उभकना</b>	<b>उराना</b>	<b>उस्टर (अँ)</b>	उांडी कूच 904.7 ⇨
बार बार डुबकी लगाना 1031 22	घुडकना 373 20	उस्टर 416 29	

## डॉड़ी मारना

### डॉड़ी मारना

कम लौलना 962 64

### डॉवीडोल

डगमगाता [डगमगाती] 1084 46

दुषिधाग्रस्त 501 8

विचलनशील 501 12

### डॉवीडोलपन

डगमगाहट 1084 11

### डॉस

कीट सूची 122 12

डॉस 122.27 ⇨

### डॉस (अँ)

नृत्य 462 3

### डॉस डाइरेक्शन (अँ)

नृत्य निर्देशन 462 16

### डॉसर (अँ)

नर्तक 462 13

### डाइक

डाइक 22 5 ⇨

### डाइक (अँ)

डाइक 22 5

### डाइन

डाकिनी 786 7

भूतनी 786 2

### डाइनासौर

डाइनोसौर 123 9

### डाइनिंग कार

डाइनिंग कार 1076 5 ⇨

### डाइनिंग कार (अँ)

डाइनिंग कार 1076 5

### डाइनिंग टेबल

डाइनिंग टेबल 595 35 ⇨

### डाइनिंग टेबल (अँ)

डाइनिंग टेबल 595 35

भोजन पटल 194 10

### डाइनिंग सैलून (अँ)

डाइनिंग कार 1076 5

### डाइनिंग हाल (अँ)

मैस हाल 194 7

### डाइनेमिक्स (अँ)

गति विज्ञान 1042 4

### डाइनोसौर

डाइनोसौर 123 9 ⇨

### डाइरेक्ट टेक्स (अँ)

प्रत्यक्ष कर 647 4

### डाइव (अँ)

डाइविंग 1081 24

डाइविंग 483 12

तरण कूद 1086 12

### डाइव करना

डाइव करना 483 24 ⇨

### डाइव मारना

डाइव करना 483 24

### डाइवर

डाइवर 483 13 ⇨

### डाइवर (अँ)

डाइवर 483 13

### डाइविंग

डाइविंग 483 12 ⇨

डाइविंग 1081 24 ⇨

### डाइविंग (अँ)

डाइविंग 1081 24

डाइविंग 483 12

### डाइवोर्स (अँ)

तलाक़ 804 8

### डाइस (अँ)

पासा 479.21

### डाई (अँ)

रगव्य 290 1

### डाईमेकर (अँ)

सॉशिया 565 19

### डाक

आवाहन 1055 1

डाका 444 23 ⇨

डाक 786 6 ⇨

नीलाम बोली 659 11

### डाकखाना

डाकघर 444 28

### डाकखाना संख्या

पिन कोड 444 15

### डाकघर

डाकघर 444 28 ⇨

### डाक टिकट

डाक टिकट 444 30 ⇨

### डाक डिब्बा

डाक डिब्बा 1076 10 ⇨

### डाक द्वारा प्रेषित

डाक द्वारा प्रेषित 1054 19 ⇨

### डाकनी

डाकिनी 786 7

### डाकपाल

डाक बाबू 444 22

### डाक बंगला

डाक बंगला 1090.28 ⇨

### डाकबंबा

डाकबंबा 444 29 ⇨

### डाक बाबू

डाक बाबू 444 22 ⇨

### डाक मुंशी

डाक बाबू 444 22

### डाका

डकैती 864 19

### डाकाज़नी

डकैती 864 19

### डाकिन

डाकिनी 786 7

### डाकिनी

डाकिनी 786 7 ⇨

### डाकिनी (दे.)

भूतनी 786.2

### डाकिया

डाकिया 444 21 ⇨

### डाकू

डकैत 864 20

### डाकेज़न

डकैत 864 20

### डाक्टर

धिकित्सक 171 13

महा विद्वान 319 3

### डाक्टर (अँ)

ऐलोपैथ 172 4

पूर्णविद्य 318 5

वाचस्पति उपाधि 322 30

### डाक्टरी

ऐलोपैथी 172 3

धिकित्सा 171 1

### डाक्टरी आला

स्टैथोस्कोप 171 5

### डाक्टरी परीक्षा

डाक्टरी परीक्षा 171 3 ⇨

### डाक्टरी प्रमाण पत्र

धिकित्सा प्रमाण पत्र 494 13

### डागदर

ऐलोपैथ 172 4

### डागा

दोल डगा 461 96

### डाट

अपिधानित 675 19

अवरोधक 1047 28

टेकनी 596 3

डॉट 373 11

डाट 611 १४ ⇨

डाट 675 11 ⇨

रोका 675 14

### डाटदार

दक्कनदार 675 20

### डाटना

पहनना 589 22

### डाटबंदी

मेहराब निर्माण 600 7

### डाटवाला

दक्कनदार 675 20

### डाटा

छतदार मार्ग 1063 24

### डाड

उदत 144 5

दाढ़ 144 7

### डाढ़ी

जटा 112 17

दाढ़ी 136 3

### डाब

दर्भ घास 11 9

### डाबर

खादर 552 5

खिलमधी 679 27

छिछला गड्ढा 15 3

### डाभ

अकुर 113 1

दर्भ घास 11 9

### डामर

उपद्रव 903 1

घमत्कार 379 4

युद्ध पलायन 916 5

### डामर: सड़क

कोलतार सड़क 1063 43

### डामल

आजीवन कारावास 868 14

देश निर्वासन 870 10

### डायगोनल (अँ)

विकर्णयुक्त 1026 11

विकर्ण रेखा 968 25

### डायगोनैलिटी (अँ)

विकर्णता 1026 5

### डायटिंग

डायटिंग 182 6 ⇨

### डायटिंग (अँ)

डायटिंग 182 6

### डायन

डाकिनी 786 7

भूतनी 786 2

### डायबिटीज़ (अँ)

मधुमेह 163 34

### डायमंड (अँ)

हीरा 96 28

### डायमंड कटर (अँ)

हीरातराश 566 6

### डायमंड जुबिली (अँ)

हीरक जयंती 58 7

### डायमीटर (अँ)

चक्र आधा भाग 960 2

व्यास 972 12

### डायरी

डायरी 41 5 ⇨

डायरी 415 16 ⇨

### डायरी (अँ)

कार्य सूची 993 3

डायरी 41 5

डायरी 415 16

### डायरेक्टरी (अँ)

निदेशन पुस्तक 446 17

### डायरेक्ट करंट

डायरेक्ट करंट 102 4 ⇨

### डायरेक्ट करंट (अँ)

डायरेक्ट करंट. 102 4

### डायरेक्टर (अँ)

निदेशक 652 22

मघ निर्देशक 468 11

### डायरेक्टरी

डायरेक्टरी 993 12 ⇨

### डायरेक्टरी (अँ)

डायरेक्टरी 993 12

### डायरेक्टोरेट (अँ)

निदेशालय 654 9

### डायरेक्टोरेट जनरल (अँ)

महा निदेशालय 654 10

### डायलोग (अँ)

नाटक सवाद 465 1

### डायलोग थिलीथरी (अँ)

सवाद उच्चारण 465 8

- जायस (अँ)**  
मच 695 12
- जायिन**  
डाकिनी 786 7
- जार**  
दल 691 1  
फूल डलिया 677 11  
समूह 690 1
- जाल**  
अवपातन 1031 3  
शाखा 114 10
- जाल टहनी**  
शाखा प्रशाखा 114 9
- जालदार**  
शाखायुक्त 114 15
- जालना**  
अतर्कित करना 1002 18  
ओढ़ना 592 9  
झोकना 668 23  
नीचे फेकना 1052 18  
नीचे फेकना 1052 18  
पतित करना 1031 16  
पहनना 589 22  
पूँजी निवेश करना 628 22  
बिघाना 592 10  
भराई करना 1004 8  
भवन बनाना 598 12  
भिक्षा देना 642 17  
रदी करना 526 16
- जालर**  
डोलर 629 13
- जाली**  
उपहार 640 2  
डलिया 677 10  
शाखा 114 10
- जाह**  
ईष्या 709 1
- जाहना**  
ईष्या होना 709 3
- जाहुक**  
चातक 126 39  
जलपक्षी सूची 126 7  
नीलकंठ 126 46
- जिंगर**  
गला खूँटा 555.12  
छली 827.24  
प्रक्षेपण 1052.2
- जिगी (अँ)**  
रक्षा नीका 1072 32
- जिडिम**  
बाम 125 9
- जिडिम**  
डुगडुगी 461 42
- जिडिसा**  
टिंडा 189 22
- जिडीर**  
समंदर झाम 87 18
- जिब**  
अडा 242 1  
डिबाणु 130 7  
पशु पक्षी शिशु 230 6  
शरीर 139 1
- जिब प्रथि**  
जिबिद 132 12
- जिबज**  
अडज 243 14
- जिबाणु**  
जिबाणु 130 7 ⇨
- जिबासाय**  
जिबासाय 152 16 ⇨  
जिबिरे 132 12
- जिबिका**  
बुलबुला 88 14
- जिबिद**  
जिबिद 132 12 ⇨
- जिबिद (प्र)**  
जिबिद 132 12
- जिबी**  
चरखी 126 35
- जिभ**  
अडा 242 1  
लार्वा 242 6
- जिभक**  
नवजात शिशु 230 4
- जिभिया**  
धर्म पाखडी 825 4
- जिकी**  
जिकी 1076 15 ⇨
- जिकी (अँ)**  
जिकी 1076 13
- जिककी**  
जिकी 1076 13
- जिकटेटर (अँ)**  
तानाशाह 882 28
- जिकटेसन लेना**  
आशु लेखन करना 412 40
- जिक्री**  
जिक्री 877.17 ⇨
- जिक्री (अँ)**  
जिक्री 877 17
- जिक्रानरी (अँ)**  
शब्दकोश 446 12
- जिगन**  
धैर्य भंग 395.11  
विचलन 501 4
- जिगना**  
डगमगाना 1084 35  
दुरचरित्र होना 811 4  
प्रतिरोध क्षीण होना 915.5  
बचन लोडना 338.30  
विचलित होना 501.7  
विस्थापित होना 1036 11
- जिगरी**  
जिक्री 877 17
- जिगरी (अँ)**  
अश 960 12  
तापाक 103 11
- जिगा [जिगी]**  
विचलित 501 11
- जिगाना**  
विस्थापित करना 1036.12
- जिगी**  
तालाब 18 10  
बावड़ी 19 10
- जिगी (अँ)**  
शिक्षा उपाधि 322 26
- जिगी: 90**  
समकोण 970 2
- जिगी: 90ऊ**  
अधिक कोण 970 5
- जिजाइन**  
जिजाइन 404 14 ⇨  
पृष्ठ सज्जा 447 22
- जिजाइन (अँ)**  
कपड़ा बुनाघट 576 11  
जिजाइन 404 14  
निर्माण परिकल्पना 599 15
- जिजाइन कर्मी**  
जिजाइन कर्मी 404.28 ⇨
- जिजाइनर (अँ)**  
जिजाइन कर्मी 404 28
- जिजिल वाच (अँ)**  
अक घड़ी 50 21
- जिटर्जट पावडर**  
जिटर्जट पावडर 220 23 ⇨  
जिटर्जट पावडर (अँ)  
जिटर्जट पावडर 220 23
- जिठियारा [जिठियारी]**  
दृष्टिपुक्त 282 18
- जिठीना**  
नज़र टीका 710 11
- जिनर (अँ)**  
मुख्य आहार 199.5  
साध्य आहार 199 4
- जिन्न टाइम (अँ)**  
आहार काल सूची 199 2
- जिनर सैट (अँ)**  
बरतन सैट सूची 680 19
- जिनर सैट सूची**  
जिनर सैट सूची 680.21 ⇨
- जिनीयैट (अँ)**  
नाटक फलागम 466 16
- जिप (अँ)**  
डुबकी 1031.10
- जिपाफिट (अँ)**  
जमा राशि 631 14
- जिपाफिट अकाउंट (अँ)**  
जमा खाता 631.5
- जिपाफिटर (अँ)**  
जमा कर्ता 631 15
- जिपार्टमेंट (अँ)**  
विभाग 937 3
- जिशाकलय विभाग 321.15**
- जिपार्टमेंटल स्टोर**  
जिपार्टमेंटल स्टोर 662 4 ⇨
- जिपार्टमेंटल स्टोर (अँ)**  
जिपार्टमेंटल स्टोर 662 4
- जिपो (अँ)**  
भडार घर 670 5  
वितरण केन्द्र 656 9  
संग्रहालय 669 8
- जिप्टी (अँ)**  
सहकारी कर्मचारी 652 31
- जिप्लोमा**  
जिप्लोमा 322.31 ⇨
- जिप्लोमा (अँ)**  
जिप्लोमा 322 31
- जिप्लोमेट (अँ)**  
राजनयिक 443 15
- जिप्ली लाइन**  
जिप्ली लाइन 958.20 ⇨
- जिफ्रिस (अँ)**  
प्रतिवाद 875 11
- जिबडिब**  
फदका 91 7
- जिबडिमाता [जिबडिमाती]**  
स्पंदित 1039 18
- जिबडिमाना**  
स्पंदित होना 1039 14
- जिबडिमाहट**  
नज़र स्पंदन 1039 3  
फदका 91 7
- जिबिया**  
जिबिया 676 4 ⇨  
डिबा 676 1  
रत्न मंजूषा 676.5
- जिबेट (अँ)**  
वाद विवाद प्रतियोगिता 324 4
- जिबैचर**  
डिबैचर 628 18 ⇨
- जिबैचर (अँ)**  
डिबैचर 628 18
- जिब्बा**  
कटोरदान 676.8  
गाड़ी. डिब्बा 1076 3  
डिब्बा 676 1 ⇨  
पैक 1014.2  
यान कक्ष 1076.7  
यान शरीर 1076.1  
रेलगाड़ी. डिब्बा 1076.4
- जिब्बाबंद**  
डिब्बाबंद 1014.9 ⇨
- जिब्बाबंदी**  
डिब्बाबंदी 1014.4 ⇨
- जिब्बी**  
जिबिया 676.4  
डिब्बा 676 1  
पैक 1014.2
- जिबरेण**  
डिमरेज 670.8 ⇨

**डिमांड (अँ)**

**डिमांड (अँ)**  
 अनुरोध 350 6  
 माँग 656 1  
**डिमांड ब्रान्ड (अँ)**  
 बँक ब्रान्ड 631 11  
**डिमांड नोट (अँ)**  
 आयाचन पत्र 1055 6  
**डिमिटी**  
 डोरिया 580 23  
**डिमोशन (अँ)**  
 पदावनति 653 13  
**डिमिया**  
 खेत भवन 602 15  
**डिलीवरी (अँ)**  
 प्रसव 244 1  
**डिलीवरी करवाना**  
 प्रसूति कर्म करना 244 13  
**डिल्सा**  
 सॉड बैल कूब 147 10  
**डिवाइडर (अँ)**  
 सड़क विभाजक 1064 3  
**डिवीजन**  
 डिवीजन 932 23 ⇨  
**डिवीजन (अँ)**  
 डिवीजन 932 23  
 प्रभाग 937 6  
 प्रेणी 322 25  
**डिवीजनल आफिस (अँ)**  
 क्षेत्रीय कार्यालय 654 7  
**डिवीडेंड (अँ)**  
 लाभांश 646 6  
**डिश (अँ)**  
 डिश एंटेना 472 28  
**डिश एंटेना**  
 डिश एंटेना 472.28 ⇨  
**डिश एंटेना (अँ)**  
 डिश एंटेना 472 28  
**डिसीप्लिन (अँ)**  
 अनुशासन 893 4  
**डिस्क**  
 डिस्क 951.10 ⇨  
**डिस्क (अँ)**  
 घड़ी 479 13  
 डिस्क 951 10  
**डिस्कस (अँ)**  
 घड़ी 479 13  
**डिस्कार्डेंट (अँ)**  
 कटीती 864 17  
**डिस्को**  
 डिस्को 471.9 ⇨  
**डिस्को (अँ)**  
 डिस्को 471 9  
**डिस्कोथीक (अँ)**  
 डिस्को 471.9  
**डिस्कीमिनेशन (अँ)**  
 सुरधि 400.5  
**डिस्पाज़ (अँ)**  
 छद्म 824 9

**डिस्वार्जन**  
 डिस्वार्जन 101.9 ⇨  
**डिस्टिल करना**  
 आसवन करना 82 5  
**डिस्टिलर (अँ)**  
 मद्य निर्माता 209 29  
**डिस्टिलरी (अँ)**  
 मद्य आसवन शाला 82 3  
**डिस्टिल्ड वाटर (अँ)**  
 आसवित जल 88 6  
**डिस्टैपर**  
 डिस्टैपर 290 13 ⇨  
**डिस्टैपर (अँ)**  
 डिस्टैपर 290 13  
**डिस्ट्रिक्ट (अँ)**  
 जनपद 34 6  
**डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (अँ)**  
 जनपद परिषद 892 7  
**डिस्ट्रीब्यूटर (अँ)**  
 फिल्म वितरक 470.5  
 वितरक 656 8  
**डिस्ट्रीब्यूशन (अँ)**  
 वितरण 656.7  
**डिस्ट्रिब्यूरी (अँ)**  
 औषधालय 175 2  
**डिस्ट्रिच (अँ)**  
 प्रेषित समाचार 445 18  
**डिस्पोज़ल (अँ)**  
 न्यायिक निपटारा 877 11  
**डिस्ट्रिंग (अँ)**  
 विसर्जन 1054 5  
**डिस्मिप्त करना**  
 घ्युत करना 653 27  
**डिस्मिप्तल (अँ)**  
 खारिजी 877 12  
**डिस्मिप्ड (अँ)**  
 खारिज 877.13  
**डिस्सेव्वान (अँ)**  
 जीव विच्छेदन 543 12  
**डॉग**  
 अतिशयोक्ति अलंकार 454 3  
 आत्मप्रशंसा 842 1  
**डॉग**  
 डॉग 842.4 ⇨  
 दिखावटी साहस 394.2  
**डॉगबाज़**  
 डॉगबाज़ 842.15 ⇨  
**डॉग मारना**  
 अभिमान प्रदर्शन करना 858.8  
 डॉग मारना 842.9 ⇨  
**डॉग हॉकना**  
 डॉग मारना 842.9  
**डॉगहीन**  
 विनम्र 733 19  
**डॉगहीनता**  
 विनम्रता 733.8  
**डी**  
 डी 956.6 ⇨

**डी (अँ)**  
 घक्रांश मापी 960 14  
 डी 956 6  
**डीआर (अँ)**  
 वाचस्पति उपाधि 322 30  
**डीज़ल**  
 डीज़ल 110.17 ⇨  
**डीज़ल (अँ)**  
 डीज़ल 110 17  
**डीज़ल इंजन**  
 डीज़ल इंजन 1078 6 ⇨  
**डीज़ल इंजन (अँ)**  
 डीज़ल इंजन 1078 6  
**डीटेशन (अँ)**  
 नज़रकैद 868 9  
**डीटैक्टिव (अँ)**  
 गुप्तचर 866 12  
**डीठ**  
 नज़र 111 5  
**डीडक्शन (अँ)**  
 निगमन 325 13  
**डीन**  
 उड्डयन 1030 11  
**डीप फ्राइंग (अँ)**  
 कड़ाही तलाई 195 33  
**डीप फ्रीज़र**  
 डीप फ्रीज़र 105 11 ⇨  
**डीप फ्रीज़र (अँ)**  
 डीप फ्रीज़र 105.11  
**डीप सी लाइन (अँ)**  
 डिप्सी लाइन 958 20  
**डीप्रेशन (अँ)**  
 अवसादानुभूति 353 5  
 व्यापारिक मदी 664 13  
**डीफेंस (अँ)**  
 प्रतिरक्षा 908 2  
**डीफेंसिव (अँ)**  
 प्रतिरक्षात्मक 908.25  
**डीयर (अँ)**  
 पत्रारंभ संबोधन आदि सुची 444.41  
**डील**  
 क्रुद 154 2  
 गिलटी 166 4  
 डील 165.8 ⇨  
 मुँहासा 165.12  
**डीलडील**  
 अंग अनुपात 155.1  
 क्रुद क्रामत 154.1  
 युक्ति 517 1  
**डीलर (अँ)**  
 व्यापारी 657.2  
**डीसी (अँ)**  
 डायरेक्ट करंट 102.4  
**डीसेडिंग (अँ)**  
 अवरोह क्रमिक 991.23  
**डीसेडिंग आर्डर (अँ)**  
 अवरोह क्रम 991.4

**डीसेलेरोमीटर (अँ)**  
 मथरा मापी 958 30  
**डुंडुम**  
 बाम 125 9  
**डुगडुगी**  
 डुगडुगी 461.42 ⇨  
 नगाड़ा 461 58  
 मुनादी 441 11  
**डुग्गी**  
 डुगडुगी 461.42  
 मुनादी 441 11  
**डुबकी**  
 डुबकी 1031.10 ⇨  
 सबमर्जिस 1080 14  
**डुबकी (दे.)**  
 डाइविंग 483 12  
**डुबकी कर्म**  
 डुबकी कर्म 1031 11 ⇨  
**डुबकी खाना**  
 डुबकी लगाना 1031 21  
**डुबकीघोरा**  
 डाइवर 483 13  
**डुबकी: तरल**  
 डोब 1031 12  
**डुबकी यान**  
 डुबकी यान 1072.38 ⇨  
**डुबकी लगाना**  
 डुबकी लगाना 1031.21 ⇨  
**डुबकी लगाने वाला**  
 डुबकी लगाने वाला 1031 32 ⇨  
**डुबाई**  
 प्लव सिंचन 548 14  
**डुबाऊ**  
 अग्राह्य 984 10  
**डुबाना**  
 अपमानित करना 855 6  
**डुबाव (जेसे: हाथी डुबाव)**  
 जलराशि गहराई 984 2  
**डुबाव गहराई**  
 जलराशि गहराई 984 2  
**डुबियार**  
 पनडुब्बा 483 15  
**डुबाना**  
 आई करना 88.19  
 भिगोना 220.37  
**डुब्बी**  
 सबमर्जिस 1080.14  
**डुलता [डुलती]**  
 दोलायमान 1037.23  
**डुलन**  
 संचलन 1037.4  
**डुलना**  
 झूलना 1034.19  
 विस्थापित होना 1036 11  
**डुलाई**  
 संचालन 1037.5  
**डुलाना**  
 दोलन करना 1037.15



विस्थापित करना 1036 12  
**दुलावन**  
 सचालन 1037 5  
**दुंगर**  
 छोटा पर्यत 16 5  
 टीला 16.1  
 बागर 552 7  
**दुंगरी**  
 छोटी पहाड़ी 16 6  
**दुप्लीकेट (अं)**  
 अनुलिपि 414 4  
**दुप्लीकेटर (अं)**  
 अनुलिपित्र 414 5  
**दुप्लेक्स फ्लैट**  
 दुप्लेक्स फ्लैट 602 28 ⇨  
**दुप्लेक्स फ्लैट (अं)**  
 दुप्लेक्स फ्लैट 602 28  
**दुब**  
 गहन अध्ययन 321 24  
 जलराशि गहराई 984 2  
 दुब 1031 9 ⇨  
 ससिक्त मिश्रण 1008.4  
**दुब जाना**  
 दुबना 1031 20  
**दुब जाने वाला तट**  
 बेला तट 25 21  
**दुबता [दुबती]**  
 अस्तगामी 5 31  
**दुबन**  
 अस्तगमन 5 10  
 दुब 1031 9  
 दुबन 169 4 ⇨  
 ससिक्तन 1008 15  
**दुबना**  
 अस्त होना 5 27  
 दुबना 1031 20 ⇨  
 तल्लीन होना 331 9  
 नियरना 1031 23  
**दुबना उतराना**  
 बार बार दुबकी लगाना 1031 22  
**दुब मरना**  
 लज्जित होना 845 6  
**दुबा [दुबी]**  
 अस्तगत 5 30  
 दुबा [दुबी] 1031 31 ⇨  
 तल्लीन 331 14  
 पगा [पगी] 280.31  
 बाइग्रस्त 22.6  
 ससिक्त 1008 29  
 समाधिस्थ 755 9  
**दुबापन**  
 तल्लीनता 331 6  
 समाधिस्थता 755 4  
**दुबी रकम: खाता**  
 बट्टा खाता 639.4  
**दुह**  
 टीला 16 1

**डेंडहा**  
 बाम 125 9  
**डे (अं)**  
 सप्ताह वार 46 2  
**डे (अं)**  
 तारीख 44 1  
**डे (अं)**  
 रोमास 368 9  
**डेढ़ गाँठ**  
 डेढ़ गाँठ 572 4 ⇨  
**डे बुक (अं)**  
 रोजनामचा 632 20  
**डेरवाल**  
 तबू व्यवसायी 600 6  
**डेरा**  
 तबू 600 19  
 लीजिंग हाउस 1090 32  
**डेरी (अं)**  
 डेरी फार्म 603 23  
**डेरीडंग (अं)**  
 दुग्ध पशु पालन 554 1  
**डेरी पशु**  
 गाय भैस 127 9  
**डेरी फ़ार्म**  
 डेरी फार्म 603 23 ⇨  
**डेरी फ़ार्म (अं)**  
 डेरी फार्म 603 23  
**डेरी फ़ार्मिंग (अं)**  
 दुग्ध पशु पालन 554 1  
**डेरे वाला**  
 तबू व्यवसायी 600 6  
**डेला**  
 नेत्र पुतली 141 5  
**डेली**  
 डेला 938 41  
**डेली (अं)**  
 दैनिक 71 14  
 समाचार पत्र 445 1  
**डेली अलाउंस (अं)**  
 दैनिक भत्ता 643 36  
**डेली न्यूज़पेपर (अं)**  
 समाचार पत्र 445 1  
**डेल्टा**  
 डेल्टा 21 24 ⇨  
**डेवकी**  
 डेवकी 608.11 ⇨  
**डेहरी**  
 अनाज गोदाम 670 18  
**डेडराइट (अं)**  
 पादपात्र 77 4  
**डेक**  
 डेक 1073.27 ⇨  
**डेक (अं)**  
 डेक 1073 27  
**डेक: तार खूँटा**  
 मकरी 1073.36  
**डेकरान**  
 डेकरान 569 17 ⇨

**डेकरान (अं)**  
 डेकरान 569.17  
 रासायनिक वस्त्र सूची 579.15  
**डेकईड (अं)**  
 खलासी 1080 22  
**डेकाग्राम**  
 डेकाग्राम 962.39 ⇨  
**डेकाग्राम (अं)**  
 डेकाग्राम 962.39  
**डेकर**  
 डेकर 959.40 ⇨  
**डेकर (अं)**  
 डेकर 959 40  
**डेकोरेशन (अं)**  
 अलंकार 854 13  
**डेजर्ट कूलर (अं)**  
 रूम कूलर 105 7  
**डेजर्ट स्पून (अं)**  
 बड़ा चम्मच 681 18  
**डेज़िनेशन (अं)**  
 पद नाम 652 2  
**डेटर्स लैजर (अं)**  
 देनदार बही 632 16  
**डेड अकाउंट (अं)**  
 निष्क्रिय खाता 631 9  
**डेडलाइन (अं)**  
 अंतिम दिन 39 4  
**डेना**  
 पख 151 1  
 विमान पख 1074 22  
**डेनिम**  
 डेनिम 580 22 ⇨  
 डेनिम 586 5 ⇨  
**डेनिम (अं)**  
 डेनिम 580 22  
 डेनिम 586 5  
**डेविट (अं)**  
 घटा प्रविष्टि 632 6  
**डेम (अं)**  
 बाँध 22.2  
**डेमन**  
 डेमन 785.5 ⇨  
**डेमन (अं)**  
 डेमन 785 5  
**डेमोक्रेसी (अं)**  
 प्रजातंत्र 881 18  
**डेरिक**  
 डेरिक 1062 17 ⇨  
**डेरिक (अं)**  
 डेरिक 1062 17  
**डेसिगेशन (अं)**  
 प्रतिनिधि मंडल 888 28  
**डेविट**  
 डेविट 1073.29 ⇨  
**डेविट (अं)**  
 डेविट 1073.29  
**डेविल (अं)**  
 देव दानव 783 16

रोतान 785.1  
**डेश (अं)**  
 अध्याय समापन सूचना 447.5  
**डेश (अं) ( )**  
 विवरण चिह्न डेश 425 41  
**डेशिबल**  
 डेशिबल 958.46 ⇨  
**डेशिबल (अं)**  
 डेशिबल 958 46  
**डेशिमल (अं)**  
 दराम लव 950 6  
**डेशिमल सिस्टम (अं)**  
 दराम लव प्रणाली 950 5  
**डेशीऐर**  
 डेशीऐर 959 41 ⇨  
**डेशीऐर (अं)**  
 डेशीऐर 959 41  
**डेशीग्राम**  
 डेशीग्राम 962 40 ⇨  
**डेशीग्राम (अं)**  
 डेशीग्राम 962 40  
**डैस्क (अं)**  
 रीडिंग टेबल 595 37  
**डैस्ट्रोयर**  
 डैस्ट्रोयर 1072 46 ⇨  
**डैस्ट्रोयर (अं)**  
 डैस्ट्रोयर 1072 46  
**डैस्ट्रोयर (अं)**  
 विध्वंसक शस्त्र 922 6  
**डोंगर**  
 छोटा पर्यत 16 5  
**डोंगरी**  
 छोटी पहाड़ी 16 6  
**डोंगा**  
 डिनर सैट सूची 680.21  
 डोंगा 679 47 ⇨  
 बड़ी नौका 1072 14  
**डोंगी**  
 छोटी नौका 1072 13  
 ट्रे 685 10  
**डोंगी**  
 नौका 1072 2  
 नौका सूची 1072 3  
**डोंडा**  
 फल 116 1  
**डोंडी**  
 कली 115 5  
**डोंड़ी**  
 दुग्धसूती 461 42  
**डोंडी**  
 फलाकुर 113 4  
**डोंई**  
 काठ कलछी 681 6  
 काठ बरतन सूची 680 4  
**डोंकरी**  
 वृद्ध स्त्री 232.5  
**डोंका**  
 काठ बरतन सूची 680.4

## डोकी

### डोकी

काठ भरतन सूची 680 4

### डोकी

फलांकुर 113 4

### डोकेया

टेंट 672.6

### डोनर (अ)

दानी 641 27

### डोब

जलराशि गहराई 984 2

डोब 1031 12 ⇨

प्लव सिंघन 548 14

### डोबा

डोबा 1031.13 ⇨

### डोम

घाडाल 254 10

### डोम (अ)

गुबद 611 5

### डोमनी

चांडालनी 254 11

### डोमिनोज

डोमिनोज 478 7 ⇨

### डोमिनोज (अ)

डोमिनोज 478 7

### डोर

डोर 569 9 ⇨

डोरी 570 1

तारतम्य 1049 3

पतंग डोर 569 10

सूती धागा 569 22

स्वजन भावना 725 2

### डोर (अ)

द्वार 608 1

### डोरक

डोरी 570 1

### डोरफ़ेम (अ)

चीखट 809 1

### डोरबैल (अ)

दरवाजा घटी 461 33

### डोर स्टीपर (अ)

खटका 609.19

### डोरा

डोरी 570.1

तनु 569 1

धारी 578 12

माला धागा 569 8

सूती धागा 569.22

### डोरिया

डोरिया 580.23 ⇨

### डोरी

अलगनी 1024 6

इलास्टिक 1050.13

डोरी 570.1 ⇨

तनी 571.29

तराजू पलका डोरी 962 24

तारतम्य 1049.3

धनुष प्रस्थंघा 926 15

पंक्ति 691 4

पतंग डोर 569 10

माला धागा 569 8

रस्सी 570.5

साहुल डोरी 559 53

सूती धागा 569 22

स्वजन भावना 725 2

### डोल

डोल 679 33 ⇨

डोल सूची 679 34

पालकी 1071 24

### डोलघा

डोल सूची 679 34

### डोलघी

डोल सूची 679 34

### डोलता [डोलती]

झूलता [झूलती] 1034 21

दोलायमान 1037 23

### डोलती हवा

बघार 85 14

सयल वायु 85 4

### डोलन

झूलन 1034 1

विचलन 501 4

राघलन 1037 4

### डोलना

झूलना 1034 19

धैर्य भग होना 395 18

पर्यटन करना 1090 40

पालना 1034 17

विचरना 1085 10

विचलित होना 501 7

विस्थापित होना 1036 11

### डोल सूची

डोल सूची 679 34 ⇨

### डोला

पालना 1034 17

### डोला [डोली]

विचलित 501 11

### डोलाना

दोलन करना 1037 15

### डोली

जालीदार अलमारी 671 8

डोली 802 16 ⇨

डोली 1071 21 ⇨

नव वधु दासी 801 13

पालना 1034 17

बिदायगी 800 31

### डोली चढ़ना

स्त्री का विवाह होना 799 44

### डोली झुला

घरखी झुला 1034.10

### डोला

डोला 202 13 ⇨

### डोली

रक्षा नौका 1072 32

### डोली

मुनादी 441 11

### डोआ

काठ कलछी 681 6

### डोक (अ)

नौका घाट 1069 12

### डोकी

फारुता 126 52

### डोक्यूमेंट (अ)

दस्तावेज 412 19

### डोक्यूमेंटरी फ़िल्म (अ)

वृत्तचित्र 472 10

### डोना (स्पेन)

विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856 6

### डोल

अवसर 70 1

आकार रूप 967 5

परिकल्प 520 6

युक्ति 517 1

सभावना लक्षण 68 3

### डोल (अ)

गुड़िया 480 7

### डोलना

गढ़ना 545 22

### डोल बैठने पर

उपयुक्त अवसर पर 70 16

### डोलर

डोलर 629 13 ⇨

### डोलर (अ)

डोलर 629 13

### डोला

तट बंध 25 19

### डोली

डोली 1071 13 ⇨

### डोली (अ)

डोली 1071 13

### डोल्फ़िन (अ)

सूँस 124 12

### ड्यूटी (अ)

तट कर 647 19

पाली 70 10

### ड्यूट्स मार्क

ड्यूट्स मार्क 629.14 ⇨

### ड्योका

ड्योका 949 33 ⇨

### ड्योका [ड्योकी]

ड्योका 949 33

### ड्योकाण

सामजस्य स्थापना 702 2

### ड्योकी

डेवदी 608 11

दरवार भवन 695 8

### ड्योकीदार

द्वार. पहरेदार 908.13

### ड्योकीवान

द्वार. पहरेदार 908.13

### डूग ऐडिक्ट (अ)

मदयासक्त 212 11

### डूम

डूम 461.43 ⇨

### डूम (अ)

डूम 461 43

पीपा 678 13

### डूमस्टिक (अ)

सहजन 13 24

### डूम

डूम 912 9 ⇨

### डूम (अ)

डूम 912 9

### डूमिंग पिन

डूमिंग पिन 417 8 ⇨

### डूमिंग पिन (अ)

डूमिंग पिन 417 8

बिरजी कील 1016 12

### डूमिंग बाक्स

डूमिंग बाक्स 416 23 ⇨

### डूमिंग बाक्स (अ)

डूमिंग बाक्स 416 23

### डूमिंग रूम

डूमिंग रूम 614 16 ⇨

### डूमिंग रूम (अ)

डूमिंग रूम 614 16

### डूमव

डूमव 951 14 ⇨

### डूमव (अ)

डूमव 951 14

मोटर मार्ग 1063 14

### डूमव करना

चलाना 1046 16

डूमव करना 1079 20 ⇨

### डूमवर

डूमवर 1079 13 ⇨

### डूमवर (अ)

चालक 1046 24

डूमवर 1079 13

### डूमवर सीट

चालक सीट 595 44

### डूमविंग

डूमविंग 1079 12 ⇨

### डूमविंग (अ)

चालन 1046 2

डूमविंग 1079 12

### डूमई (अ)

वर्षा सिंचित 548.56

### डूमईक्लीनर

डूमईक्लीनर 220.11 ⇨

### डूमईक्लीनर (अ)

डूमईक्लीनर 220.11

### डूमई क्लीनिंग

डूमई क्लीनिंग 220.10 ⇨

### डूमई क्लीनिंग (अ)

डूमई क्लीनिंग 220.10

### डूमई फ़ार्मिंग (अ)

वर्षासिंचित कृषि 548 17

### डूमई फ़ूट (अ)

मेवा 191 1

### डूमस्ट

डूमस्ट 478.8 ⇨



## ढलक

### ढलक

ह्रास 531 3

### ढलकना

खिडना 1032 19

दबकना 989 7

धैर्य भंग होना 395 18

विचलित होना 501 7

ह्रास होना 531 6

### ढलका [ढलकी]

हस्त 531 11

### ढलकाव

दबक 989 3

### ढलता [ढलती]

अधोगामी 1031 28

ढलानयुक्त 989 10

ह्रासशील 531 12

### ढलती जवानी

अधेइता 232.1

### ढलते

अवरोहत. 991 30

### ढलन

अधोगमन 1031 5

अवनमन 1025 3

उँडेल 668 2

डूबन 169 4

ढलाई 565 7

### ढलनशीलता

ढलनीयता 545 17

### ढलना

अनुकूल होना 885 23

अस्त होना 5 27

दबकना 989 7

नीचे उतरना 1031 17

पतन होना 1031 15

व्यतीत होना 74 2

### ढलनी

ढेला 938 41

### ढलनीय

ढलनीय 545 32 ⇨

### ढलनीयता

ढलनीयता 545.17 ⇨

### ढलबी

ढलानयुक्त 989 10

### ढलबी छत

ढलबी छत 611 18 ⇨

### ढलबी तट

ढलबी तट 25.17 ⇨

### ढलबी पाट

रैप 613 11

### ढलबी मार्ग

रैप 613 11

### ढला [ढली]

अस्तगत 5 30

ढला [ढली] 565.27 ⇨

वृद्ध [वृद्धा] 232 10

### ढलाई

ढलाई 565.7 ⇨

पिंडन 81 7

### ढलाई करना

ढलाई करना 565 23 ⇨

### ढलाई कर्मी

ढलाई कर्मी 565.8 ⇨

### ढलान

ढलबी तट 25.17

ढलान 989.2 ⇨

पर्वत ढाल 16.12

रैप 613 11

### ढलानदार

ढलानयुक्त 989 10

### ढलानयुक्त

ढलानयुक्त 989.10 ⇨

### ढला लोहा

ढला लोहा 93 9 ⇨

### ढलाव

अवनमितता 1025 4

### ढली मूर्ति

धातु मूर्ति 406.11

मूर्तिका मूर्ति 406 10

### ढलुबी

ढलानयुक्त 989 10

### ढलैत

ढालधारी 921 14

### ढलेया

ढलाई कर्मी 565.8

### ढहन

ढहन 539.3 ⇨

पतन 1031 1

पस्ती 169 6

### ढहनशील

ढहनशील 539 18 ⇨

### ढहना

ढहना 539.11 ⇨

### ढहना (दे.)

पतन होना 1031 15

### ढहरी

छोटा घड़ा 679.2

### ढहा [ढही]

ढहा [ढही] 539 17 ⇨

बहुत थका 492.16

### ढहाऊ

ढहनशील 539 18

### ढहाना

नष्ट करना 531 5

### ढाँक

आच्छादन 592 1

कगार 1000 8

पलाश 13 13

### ढाँकना

आच्छादित करना 592 8

### ढाँकने वाला

पिधानित कर्ता 675.17

### ढाँचा

अस्थि पंजर 133 5

आकार रूप 967.5

आधार सूची 596.2

इमारत 602 6

रूढ़ क्रामत 154 1

जलयान. पेटा 1073.33

ढाँचा 565.21 ⇨

पैटर्न 520 14

फॉर्मेट 520 11

शरीर 139.1

### ढाँप

आच्छादन 592 1

पिधान 675 3

### ढाँपना

आच्छादित करना 592.8

ग्रहण ग्रस्त करना 6 6

पिधानित करना 675 15

### ढाँपने वाला

पिधानित कर्ता 675 17

### ढाँपा

पिधान 675 3

पिधानित कर्ता 675 17

### ढाँपी

पिधान 675 3

### ढाँपू

पिधानित कर्ता 675 17

### ढाँसना

अत्याहार करना 182 11

### ढाई

ढाई 949 34 ⇨

### ढाई गौठ

ढाई गौठ 72 6 ⇨

### ढाई गुना

ढाई 949 34

### ढाक

नगाड़ा 461 58

पलाश 13.13

### ढाकः पला

पल्लव बरतन 680 7

### ढाका

नगाड़ा 461 58

बड़ा मंदिर 745.32

बांग्लादेश राजधानी 27 12

### ढाकी

मगल गायक 796 16

### ढापना

पिधानित करना 675 15

### ढापी

पिधान 675.3

### ढाबा

छप्पर किनारा 615.2

टॉड 612.4

ढाबा 194.6 ⇨

मुरगी टोकरा 555.6

मुर्गीझाना 603.16

### ढामक

बड़ा ढोल 461.45

### ढामरा

मादा हस 126.77

### ढार

मार्ग 1063 1

### ढारस

सांत्वना 393.4

### ढारस बैधाना

सांत्वना देना 393 12

### ढाल

अवनमितता 1025.4

ढलबी तट 25.17

ढलान 989 2

ढाल 921 1 ⇨

पर्वत ढाल 16 12

शील्ड 857 18

स्थानक 464 26

### ढालधारी

ढालधारी 921 14 ⇨

### ढालनहारा

ढलाई कर्मी 565 8

### ढालना

उँडेलना 668 15

ढलाई करना 565 23

### ढालबी

ढलानयुक्त 989 10

### ढालू

ढलानयुक्त 989.10

### ढास

डकेत 864.20

### ढासना

टेकनी 596 3

### ढासा

सहारा दीवार 607 4

### ढिंढोरची

मुनादी वाला 441 24

### ढिंढोरना

मुनादी करना 441 16

### ढिंढोरा

मुनादी 441 11

### ढिंढोरा पीटना

मुनादी करना 441.16

### ढिग

निकट मे 31 9

### ढिठाई

ढिठाई 860 9 ⇨

दुस्साहस 394.3

धृष्टता 734.8

### ढिपनी

डुसनी 684 2

ढिपनी 114 13 ⇨

स्तनाग्र 146 9

### ढिबरी

नट 1016 25

पेघदार डक्कन 675.7

### ढिभका [ढिभकी]

अमुक 316.22

### ढिभाका [ढिभाकी]

अमुक 316 22

### ढिलढिला [ढिलढिली]

अप्रगाड 80 8

### ढिलढिल

दृढ़मतहीन 344 12

**डिलार्ड**

आलस्य 490 5  
डील 1015 5  
वेग रोधन 1043 8

**डिलाना**

डीला करना 1015 8

**डिल्लक**

आलसी 490 14

**डिल्लरन**

विचलन 501 4

**डिल्लरना**

इच्छा होना 359 10  
फिसलना 1084 37  
लालसा करना 359 14  
लुब्ध होना 359 15  
विचलित होना 501 7  
सहज तुष्ट होना 374 15

**डीगडा [डीगडी]**

बलिष्ठ 160 10

**डीठ**

डीठ 860 26 ⇨  
धृष्ट 734 20  
सकोचहीन 846 7

**डीठना [डीठनी]**

धृष्ट 734 20

**डीठपन**

धृष्टता 734 8

**डील**

अव्यस्तता 503 4  
आलस्य 490 5  
गुजाइश 33 8  
डील 1015 5 ⇨  
नियत्रणहीनता 900 2  
विलब 495 1  
शिक्षिलता 1045 6

**डील छोड़ना**

डीला करना 1015 8

**डीलना**

डीला करना 1015 8

**डील पड़ना**

विलब होना 495 6

**डीलमडाला [डीलमडाली]**

शिक्षिलकाय 159 15

**डीला [डीली]**

अप्रगाढ़ 80 8  
आकार से बड़ा 961 18  
ग्रथि शिक्षिलत 574 11  
डीला [डीली] 1015 12 ⇨  
डीला [परिधान] 583 26  
दृढमतहीन 344 12  
नम्र व्यवहारी 830 8  
शिक्षिल 1045 13  
शिक्षिलकाय 159 15  
स्फूर्तिहीन 492 14

**डीला [परिधान]**

डीला [परिधान] 583 26 ⇨

**डीला करना**

डीला करना 1015 8 ⇨

**डीला जनाना कुरता**

डीला जनाना कुरता 585 36 ⇨

**डीला डाला [डीली डाली]**

डीला [परिधान] 583 26

शिक्षिल 1045 13

**डीलाडालापन**

शिक्षिलता 1045 6

**डीला डाली [डीली डाली]**

शिक्षिलकाय 159 15

**डीला पड़ना**

क्रोध भित्ना 372 7  
प्रबल न रहना 488 7

**डीलापन**

डील 1015 5  
थकान 492 4  
नम्र व्यवहार 830 3  
मदता 1045 1  
शिक्षिलकायता 159 5  
शिक्षिलता 1045 6  
स्फूर्तिहीनता 492 3

**डीला होना**

काया शिक्षिल होना 159 8

**डीली गति**

शिक्षिल गति 1045 7

**डुँडना**

खोजा जाना 863 5

**डुंढा**

होसिका 783 27

**डुंढिराज**

गणेश 7/3 22

**डुकन**

मुकुलन 120 1

**डुकना**

घात लगाना 914 12  
मुकुलित होना 120 5  
मुकुलित होना 120 5

**डुकास**

तृषा 180 5

**डुक्का**

घात प्रतीक्षा 914 1

**डुलकन**

आलुभन 359 7

खिडन 1032 5

विचलन 501 4

**डुलकना**

अनुकूल होना 885 23  
खिडना 1032 19  
लुब्ध होना 359 15  
सहज तुष्ट होना 374 15

**डुलकाना**

लुब्ध करना 359 16

**डुलन**

खिडन 1032 5

**डुलना**

खिडना 1032 19  
सहज तुष्ट होना 374 15

**डुलमुल**

दृढमतहीन 344 12

विचलनशील 501 12

**डुलमुलाना**

विचलित होना 501 7

**डुला [डुली]**

खिडा [खिडी] 1032.31

**डुलाई**

भार वहन 1061.2

माल भाड़ा 622 12

वहन 1061 1

**डुलाई करना**

भार वहन करना 1061.16

**डुलाई गमकी**

भार यान 1071 2

**डुलाई पट्टा**

कनवेयर बैल्ट 1076 27

**डुलाई पट्टी**

कनवेयर बैल्ट 10/6 27

**डुलाई वाला**

कुली 1061 4

**डुलैया**

भार वाहक 1061 22

**डूकना**

आहट लेना 297 42

घात लगाना 914 12

छिप कर सुनना 293 10

**डूका**

घात प्रतीक्षा 914 1

छिप कर भ्रवण 293 5

**डूक**

खोज 336 4

**डूडना**

खोजना 336 17

खोज पाना 863 6

**डूडला**

होसिका 783 27

**डूढा [डूडी]**

प्रतिलब्ध 863 8

**डूका**

छिप कर भ्रवण 293 5

**डूकिया**

श्वेतांबर 737 4

**डूह**

देर 686 6

**डूहा**

देर 686 6

**डूक**

गलभास 134 15

**डूकली**

कलाबाजी 1086 14

डूकली 19 12 ⇨

**डूकली लगाना**

कलाबाजी खाना 1086 19

**डूकुल**

डूकली 19 12

**डूकुल गति**

डूकुल गति 1035 5 ⇨

**डूकुली**

कलाबाजी 1086 14

डूकली 19 12

**डूंचू डूंचू**

रेक 298 28

**डूंची**

फलांकुर 113 4

**डूंच**

डिपनी 114 13

**डूंचनी**

चुसनी 684.2

डिपनी 114 13

**डूंचनी**

स्तनाग्र 146 9

**डूंची**

अपिधानित 675 19

**डूेर**

डूेर 686.6 ⇨

भडार 670 3

राशि 686 2

समूह 690 1

**डूेर (दे.)**

समुच्चय 686 1

**डूेर करना**

मारना 251 18

**डूेर लगना [डूेर लगी]**

सराशित 667 16

**डूेर लगाना**

सराशित करना 667 10

**डूेर लगाने वाला**

सराशक 667 17

**डूेर विषयक**

राशि विषयक 686.21

**डूेर सारा**

अत्यधिक 944.7

**डूेरा [डूेरी]**

भेगा [भेगी] 164 11

**डूेरी**

छोटा डूेर 686 7

डूेर 686 6

**डूेलवीस**

डूेलवीस 926.6 ⇨

**डूेला**

डूेला 938.41 ⇨

**डूेला [डूेली]**

धातु पिंड सूची 976 12

**डूेलाकार**

डूेलाकार 976.22 ⇨

**डूेलाकार पिंड**

डूेलाकार पिंड 976 9 ⇨

**डूेलाकृति**

डूेलाकार पिंड 976 9

**डूेली**

डूेली 938 43 ⇨

पिंडिका 976 13

**डूेया**

डाई 949.34

शनि एक तिहाई दश 261 23

**डूोक**

डूेर 686 6

ढोंग

ढोंग

कपटपूर्ण सरलता 818 2

ढोंग

धर्म पाखंड 825 3

पाखंड 825.2

ढोंगपूर्ण

पाखंडपूर्ण 825 6

ढोंगबाज़

धर्म पाखंडी 825 4

ढोंगी

कपटपूर्ण सरल 818 6

ढोंगी

धर्म पाखंडी 825 4

ढोंगी साधु

नक्रली साधु 790 18

ढोकला

ढोकला 202 10 ⇨

ढोकसा

सकोरा 883 10

ढोटा

पुत्र 718 3

बालक 230 23

ढोटी

पुत्री 718 10

बालिका 230.24

ढोना

भार वहन करना 1061 16

ढोने वाला

भार वाहक 1061 22

ढोया [ढोई]

वाहित (भार) 1061 21

ढोर

गाय मैस 127 9

पशु 127 1

पशुधन 127 7

ढोर ङंगर

गाय मैस 127 9

पशुधन 127 7

ढोल

झूम 461 43

ढोल 461.44 ⇨

नगाड़ा 461 58

पीपा 678 13

मंगल वाद्य सूची 796.12

ढोलक

ढोलक 461 46 ⇨

मंगल वाद्य सूची 796 12

ढोलक चमड़ा

तबला चमड़ा 461 101

ढोलकिया

ढोल ढोलकी वादक 461 47

ढोलकी

ढोलक 461 46

ढोलकी वादक

ढोल ढोलकी वादक 461 47

ढोलकी

ढोल ढोलकी वादक 461.47

ढोल डग्गा

ढोल डग्गा 461.96 ⇨

ढोल डभाका

उत्सवपूर्णता 56.2

मंगल वाद्य ध्वनि 796.10

ढोल ढोलकी वादक

ढोल ढोलकी वादक 461.47 ⇨

ढोल ध्वनि

ढमढम 296 11

ढोलना

गडा तायीज़ सूची 759.5

पति 803 5

पालना 1034 17

ढोलनी

शिशु पालना 1034 18

ढोल पीटना

प्रघार करना 442 17

ढोल वादक

ढोल ढोलकी वादक 461 47

ढोला

पति 803 5

सीमा घिहन 1001 15

ढोलिया [ढोलिनी]

ढोल ढोलकी वादक 461 47

ढोली

दो सी पान समुदाय 687 21

त

तंक

आतक 395 5

तंग

आकार से छोटा 961 17

उत्पीड़ित 391 28

कसा [कसी] 1013 25

दुखी 391 24

परेशान 519 21

संकीर्ण 980 29

तंग [परिधान]

तंग [परिधान] 583 27 ⇨

तंग आना

परेशान होना 519 16

तंग कोठरी

तंग कोठरी 614.4 ⇨

तंग खाड़ी

सैंकरी खाड़ी 24 9

तंगदस्त

अभावग्रस्त 627 17

अभावग्रस्त 627 17

तंगदस्ती

अभावग्रस्तता 627 2

तंग मोहरी: पतलून

तंग मोहरी: पतलून 586.4 ⇨

तंग सड़क

गली 1063 49

तंगहाल

अभावग्रस्त 627 17

तंग होना

दुर्दशा होना 627 13

तंगिया

तनी 571 29

तंगी

अभावग्रस्तता 627 2

असमृद्धि 627 1

दुर्लभता 942.5

संकीर्णता 980 11

तंग

उपहास 844 1

कटाक्ष 844 3

व्यग्य 844.5

तंगिया

कटाक्षपूर्ण 844 13

तंगक

बाज़ीगर 473 18

तंगुरीण

बर्बर जाति 732 8

तंगुल

अनाज 187 1

घावल 187 9

धान 187 11

तंगुल कुसुमकलि विकार

घोसठ कला सूची 397 4

तंगुलांबु

मोंड 208 17

तंगुली बीज

चीलाई 189<sup>1</sup>/<sub>20</sub>

तंत

नितात अत 995 2

मूल तथ्य 820 16

रहस्य 823 7

तंतर मंतर

जादुई मंत्र 474 28

तंतरी

तत वाद्य 461 17

वाद्य तार 461 97

तंति

प्रसार 979 3

बुनाई कर्मी 576 2

तंतिपाल (अज्ञातवास: नाम)

सहदेव 771 96

तंतु

ऊतक 129 2

तंतु 569.1 ⇨

तार 569 24

धागा 569.7

रोओं 569 4

तंतुकी

स्नायु 131 13

तंतु कीट

रेशम कीट 122 40

तंतुगर्भा

ताड़ 13 8

तंतुयुक्त

तंतुयुक्त 569 29 ⇨

तंतुवर्धन

विष्णु 768 1

शिव 767 1

तंतु वाद्य

तत वाद्य 461 17

तंतुवाप

मकड़ी 122 36

तंतुवाय

मकड़ी 122 36

तंत्र

कुटुब 726 7

छह उपमान सूची 948 28

तंतु 569 1

तंत्र क्रिया 758 3

तंत्रवाद 737 36

तौत 569 5

धर्म 735 1

परिवार 726 1

प्रबध 655 5

राष्ट्र 881 1

वश 727 1

वाममार्ग 737 46

विधि (कानून) 878 1

वेद 740 22

व्यवहार 828 1

शासन 890 1

शासन तंत्र 890 2

शासन सूत्र 890 4

समूह 690 1

सिद्धांत 343 9

तंत्र करना

तंत्र करना 758 32 ⇨

तंत्र क्रिया

तंत्र क्रिया 758 3 ⇨

तंत्र क्रिया सूची

तंत्र क्रिया सूची 758 5 ⇨

तंत्रण

शासन कर्म 890 3

तंत्र मंत्र

जादुई मंत्र 474 28

तंत्र क्रिया 758 3

मंत्र 741 1

युक्ति 517.1

तंत्र मंत्र करना

तंत्र करना 758 32

तंत्र मंत्र: विश्वास

भ्रम विश्वास 340 3

तंत्रवाद

तंत्रवाद 737.36 ⇨

तंत्रवादी

तंत्रवादी 737 37 ⇨

तंत्रवाप

कपड़ा बुनकर 576 5

तंत्रवाय

कपड़ा बुनकर 576 5

तंत्र विद्या

अभियांत्रिकी 558 14

<b>तंत्र विषयक</b>	<b>तंत्रा</b>	<b>तैवर</b>	<b>तकलीक</b>
तंत्रीय 758 39	आलस्य 490 5	तोमर 925.2	कष्ट 392 1
<b>तंत्र शास्त्र</b>	तद्रा 266 8 ⇨	<b>तअल्लुकुदेवार</b>	रोग 163 1
तंत्र शास्त्र 758 2 ⇨	<b>तंद्राटक</b>	बड़ा जमींदार 553 15	शारीरिक पीड़ा 392 4
<b>तंत्र शास्त्र आचार्य</b>	सुपाटक 267 5	<b>तअल्लुकुदेवारी</b>	<b>तकल्लुक</b>
कार्तवीर्य 769.31	<b>तंद्राटन</b>	भू सपति सूची 624 12	अल्पाहार 182.5
<b>तंत्र साधक</b>	सुपाटन 267 4	<b>तअल्लुसुब</b>	औपचारिकता 184.3
तंत्र साधक 758 4 ⇨	<b>तंद्रालु</b>	पक्षपातपूर्णता 885 2	भोजन संकोच 182 3
<b>तंत्र साधना</b>	तंद्रिल 266 16	<b>तई</b>	सत्कार 184 1
तंत्र क्रिया 758 3	<b>तंद्राहीन</b>	कारणत 507 7	सम्भीकरण 733.1
<b>तंत्रि</b>	निद्राहीन 265 9	<b>तई</b>	<b>तकल्लुमाना</b>
वीणा 461 77	<b>तंद्राहीनता</b>	छिछली कड़ाही 682 8	औपचारिकतापूर्ण 184.10
<b>तंत्रिका</b>	निद्राहीनता 265 4	<b>तक</b>	<b>तकल्लुग्री</b>
घेता 131 14	<b>तंद्रिल</b>	अवधि मे 39 11	भोजन संकोची 182 14
<b>तंत्री</b>	तद्रिल 266.16 ⇨	पर्यंत 39 12	<b>तकवा</b>
अध्यक्ष 652 14	<b>तंद्रिल होना</b>	सीमा तक 1001 44	घरखा तकला 562 11
अनुशासक 893 16	तद्रिल होना 266 12 ⇨	<b>तकवी</b>	<b>तकलीम</b>
अभियांत्रिक 558 15	<b>तंद्री</b>	तराजू 962 9	उत्तराधिकार विभाजन 623 8
कठपुतली वाला 473 7	आलसी 490 14	<b>तकदीर</b>	भाग कर्म 955 13
तंत्रवादी 737 37	<b>तंबाकू</b>	भाग्य 260.14	वितरण 656 7
तंत्र साधक 758 4	तंबाकू 213 1 ⇨	सयोग 69 1	विभाजन 699 3
तौत 569 5	पान मसाला सूची 213 20	<b>तकदीर का फेर</b>	<b>तकलीम करना</b>
तार 569 24	सुरती 213.4	भाग्य धरू 260 15	भाग करना 955 22
तारयुक्त 569 32	<b>तंबाकू सार</b>	<b>तकदीर का लिखा</b>	<b>तक्राजा</b>
नियंत्रक 899 12	निकोटीन 213 2	प्रारब्ध लेख 260 6	अधिकार दावा 897 5
मघ निर्देशक 468 11	<b>तंबाकू: सूखा पत्ता</b>	<b>तकदीर बाला</b>	आग्रह 349.1
रस्सी 570 5	सुरती 213 4	सौभाग्यशाली 260 33	आज्ञा 347.1
वाद्य तार 461 97	<b>तंबू</b>	<b>तकदीर से</b>	आवश्यकता 524 7
व्यवस्थापक 893 14	तंबू 600 19 ⇨	प्रारब्धाधीनत 260 35	भुगतान मॉग 634 2
शासक 890 5	सैनिक शिविर 933 11	<b>तकनीक</b>	<b>तक्राजा करना</b>
सपादक 445 15	<b>तंबू कर्म</b>	गुर 517.4	भुगतान की मॉग करना 634.18
सूत्रधार 468 13	तंबू कर्म 600 5 ⇨	<b>तकनीक 514 4 ⇨</b>	<b>तक्रावी</b>
स्नान्यु 131 13	<b>तंबू: खंभा</b>	<b>तकनीकहीन</b>	तक्रावी 647.27 ⇨
<b>तंत्री भांड</b>	तंबू खंभा 600.24 ⇨	भतकनीकी 515 9	<b>तकिया</b>
वीणा 461 77	<b>तंबू: खूँटा</b>	<b>तकनीकहीनता</b>	अहाता 604 3
<b>तंत्रीय</b>	तंबू खूँटा 600 25 ⇨	अतकनीकता 515 3	आश्रम 745.2
तंत्रीय 758.39 ⇨	<b>तंबूर</b>	<b>तकनीकी</b>	उपवन परकोटा 604 13
धर्मीय 735 11	तंबूरा 461 48	तकनीकी 514.15 ⇨	तकिया 593.63 ⇨
<b>तंत्री वाद्य</b>	<b>तंबूरची</b>	पारिभाषिक 317 15	मज़ार 255.8
तत वाद्य 461 17	डोल डोलकी वादक 461 47	<b>तकनीक</b>	मुँडेर 611 4
<b>तंदुरुस्त</b>	<b>तंबूरा</b>	कार्य समाप्ति 522 1	शरण स्थल 910.5
स्वस्थ 161 5	तंबूरा 461.48 ⇨	<b>तकरार</b>	श्रद्धा 340.5
<b>तंदुरुस्ती</b>	तानपुरा 461 53	तकरार 708.7 ⇨	सिरहाना 594.20
स्वस्थता 161 3	<b>तंबूल</b>	तकरार करना	सिराश्रय 598.30
स्वास्थ्य 161.1	पान पत्ता 213 17	तकरार करना 708.11 ⇨	<b>तकिया क़लाम</b>
<b>तंदुला</b>	<b>तंबू व्यवसायी</b>	<b>तकरारी</b>	तकिया क़लाम 424.14 ⇨
चीलाई 189.20	तंबू व्यवसायी 600 6 ⇨	तकरारी 708 14 ⇨	<b>तकियागाह</b>
<b>तंदूर</b>	<b>तंबू: शिखर</b>	<b>तकरीबन</b>	पीठाश्रय 596.29
तंदूर 109.7 ⇨	तंबू शिखर 600.26 ⇨	अंदाज़न 947 28	<b>तकुआ</b>
<b>तंदूर गद्दी</b>	<b>तैबोलन</b>	<b>तकरीर</b>	घरखा: तकला 562.11
तंदूर गद्दी 109.8 ⇨	पनवाज़िन 213.25	कथन 430 1	<b>तकुए पर सिपटा धागा</b>
<b>तंदुवी</b>	<b>तंबोला</b>	भाषण 430.8	खुखड़ी 575.4
भुना मांस 206 18	घृत सूची 481 2	<b>तकला</b>	<b>तक</b>
<b>तंदुवी रोटी</b>	<b>तंबोली</b>	कनक्टिंग रीड (ऑ) 1077 16	मट्टा 193 10
तंदुवी रोटी 202.21 ⇨	पनवाड़ी 213 24	घरखा: तकला 562.11	<b>तक कुर्बिका</b>
<b>तंद्र</b>	<b>तंबोह</b>	<b>तकली</b>	फटा दूध 193.8
अलसाया [अलसाई] 490 13,	नोटिस 875 16	तकली 562.12 ⇨	<b>तक्राट</b>
			मंथन: दंड 554.14

## तक्ष

### तक्ष

भरतः पुत्र सूची 770.42

### तक्षक

आठ नागराज सूची 778.18

काष्ठ कर्मा 597.24

तक्षक नाग 778.20

यंत्र निर्माता 558.17

विश्वकर्मा 773.44

### तक्षक नाग

तक्षक नाग 778.20 ⇨

### तक्षण

उत्कीर्णन 406 19

काष्ठ कर्म 597 23

चौसठ कला सूची 397.4

बसुला 559 25

यंत्र निर्माण 558.16

रदन 542 1

### तक्षण (प्र)

विवर्तनिक सचलन 9 13

### तक्षणी

बसुली 559 26

### तक्षा

विश्वकर्मा 773 44

### तक्षित

उत्कीर्ण 406 41

### तक्षता

चित्र फलक 404 31

### तक्षतीना

अटकल 947.3

आकलन 947 5

बजट 647.38

### तक्षालिया

एकांत स्थान 897 4

### तक्षल्लुस

उपनाम 315 3

### तक्षत

तक्षत 595.27 ⇨

दीधान 594.9

सत्ता आसन 595.8

सिंहासन 595 9

### तक्षत चादर

तक्षत चादर 593.32 ⇨

### तक्षतनशीन

सत्कारुड 899.25

### तक्षतनशीनी

सत्तारोहण 899 14

### तक्षतपोष

तक्षत चादर 593.32

### तक्षता

कागाज पटल 990.5

कागाज शीट 415.10

काष्ठ पटल 990 6

खाना 671.20

घाली 1065 5

पटल 990 3

पर्लेडी 671 23

### तक्ष्ता

फौसी तक्ष्ता 871.12

### तक्ष्तापलट

सहसा सत्ता अपहरण 902 6

### तक्ष्ता पलटना

सत्ता अपहरण करना 902 21

### तक्ष्ती

तक्ष्ती 415.3 ⇨

### तक्ष्ती

तक्ष्ती 415 3

पटल 990.3

पटिया 990 7

### तक्ष्ते ताऊस

तक्ष्ते ताऊस 595 10 ⇨

### तक्ष्ते सुलेमान

उड़न खटोला 1074.2

### तगका [तगकी]

दृढकाय 160 12

### तगकी

करघनी 228 7

### तगण (SS I)

वार्षिक गण सूची 452.43

### तगदमा

अटकल 947 3

### तगमा

पदक 857 7

### तगर

तगर 274 22 ⇨

### तगाड

बड़ा भिगीना 682 18

### तगाग

बड़ा भिगीना 682 18

### तगकिरा

घर्चा 436 1

### तजना

परित्याग करना 1003 3

### तजने बाला

परित्यागी 1003 6

### तज पल्लव

तेजपात 281 19

### तजरबा

अनुसंधान 307 4

नव प्रयोग 307.6

### तजरबेकार

अनुभवी 303 17

### तजल्ली

ईश्वर दर्शन 749.36

### तजवीज़

परामर्श 332 1

प्रस्ताव 329.1

सुझाव 332 5

### तजुरबा

अनुभव 303 4

### तटंक

कर्णपुर 228.8

### तट

तट 25 8 ⇨

नदी तट 25 11

### तट अवतरण

तट अवतरण 1080 10 ⇨

### तट कर

तट कर 647.19 ⇨

### तट कर चौकी

तट कर चौकी 647.20 ⇨

### तट कर संग्राहक

तट कर संग्राहक 647.36 ⇨

### तटकर्मी

तटीय कर्मचारी 1080 25

### तट छोड़ना

जलयान प्रस्थान करना 1082.27

### तट जल

तटवर्ती प्रवाहहीन जल 21 13

### तट दर्शन

थल दर्शन 1080 11

### तट पर पहुँचना

पार लगना 1080 38

### तट पोत

तट पोत 1072 28 ⇨

### तट बंध

तट बंध 25.19 ⇨

बाँध पथ 1066 11

### तट मार्ग

तट मार्ग 1066 9 ⇨

### तटवर्ती

नदी तटवर्ती 25 31

### तटवर्ती प्रवाहहीन जल

तटवर्ती प्रवाहहीन जल 21.13 ⇨

### तटवर्ती मार्ग

तट मार्ग 1066 9

### तटवर्ती समुद्र

भूभागीय समुद्र 24 3

### तटस्थ

अनासक्त 366 5

तटस्थ 887.11 ⇨

मतहीन 344 11

विवाचक पंच 877 7

### तटस्थता

तटस्थता 887 3 ⇨

मतहीनता 344.2

### तटस्थ होना

तटस्थ होना 887 8 ⇨

### तटांचल

तट 25 8

### तटाक

तालाब 18 10

### तटावतरण

तट अवतरण 1080.10

### तटावतरित

तटावतरित 1080 45 ⇨

### तटिनी

नदी 20 1

### तटी

नदी 20 1

### तटीय कर्मचारी

तटीय कर्मचारी 1080.25 ⇨

### तटीय घाट

घाट 25.20

### तटीय ताल

तटवर्ती प्रवाहहीन जल 21.13

### तटीय मार्ग

तट मार्ग 1066.9

### तटघ

शिव 767.1

### तट

कबीला 729.11

स्वजन 725 1

### तटक

टोडा 611 23

विदर 544 4

### तटकन

तटकन 544 5 ⇨

### तटकना

तटकना 544.14 ⇨

### तटक भडक

तटक भडक 226.4 ⇨

### तटक भडक (दे.)

घकाथीध 287 21

घमक दमक 287 23

### तटकभडकदार

तटकभडकदार 226 14 ⇨

दिखावटी 825 5

### तटका

छोक 195 17

प्रभात काल 47 4

प्रात कालीन अर्धप्रकाश 287 11

### तटका [तटकी]

तटका [तटकी] 544.20 ⇨

### तटका देना

छोकना 195 48

### तटका लगाना

छोकना 195.48

### तटकीला

शृंगार प्रेमी (पुरुष) 222 5

### तटकीला [तटकीली]

तटकभडकदार 226.14

### तटकीली

शृंगार प्रेमी (स्त्री) 222 6

### तटक

प्रभात मे 47.21

### तटकदार

छुंका [छुंकी] 195 63

### तटकत

तटकतहाट 297 27

पटपट 296.22

### तटकतहाट

कटकहाट 297 4

तटकतहाट 297 27 ⇨

ताली ध्वनि 296.3

### तटकती

आतिशबाजी सूची 56.6

### तटकप

तटकपहाट 392 14

मेघ विद्युत 55.9

स्पंद 1039.1



**तड़पडाता [तड़पडाती]**

तड़पता [तड़पती] 392.30

**तड़पडाता**

तड़पना 392.20

स्पष्टित होना 1039.14

**तड़पडाहट**

तड़पडाहट 392.14 ⇨

**तड़पता [तड़पती]**

तड़पता [तड़पती] 392.30 ⇨

**तड़पन**

तड़पडाहट 392.14

तीव्र मनोव्यथा 391.8

स्पदन 1039.2

**तड़पना**

तड़पना 392.20 ⇨

बहुत प्यासा होना 180.13

**तड़बदी**

गुटबदी 885.10

जातिवाद 884.32

**तड़ाक से**

शीघ्रत 496.13

**तड़ाका**

कोष 287.20

तड़तड़ाहट 297.27

धमाका 296.21

प्रहार 918.1

**तडाग**

छोटा तालाब 18.11

तालाब 18.10

**तडातड़**

अविरामत 1049.16

**तडित**

मेघ विद्युत् 55.9

**तडित दंड**

लाइटनिंग रीड 102.20

**तडिता निवर्तक**

लाइटनिंग रीड 102.20

**तडिता**

मेघ विद्युत् 55.9

**तडितप्रभा**

मेघ विद्युत् 55.9

**तडितवान**

मेघ 55.1

**तडिट्रेखा**

विद्युत् चमक 55.10

**तडिया**

समुद्र सभरी 85.18

**तडी**

छल 827.7

धमकी 373.12

**तडीपार**

क्षेत्र निर्वासन 870.9

क्षेत्र निर्वासित 870.28

**तडीपार करना**

क्षेत्र निर्वासित करना 870.18

**तडीपार कृत**

क्षेत्र निर्वासित 870.28

**तत**

अवनमित 1025.8

तंतु 569.1

तना [तनी] 1013.26

मेंका [मेंकी] 592.19

यितानित 600.31

सार 84.16

**ततराना**

गरम जल से धोना 220.33

**तत बाद्य**

तत बाद्य 461.17 ⇨

बाद्ययंत्र प्रकार सूची 461.12

**ततसार**

लुहारी भट्टी 109.13

**ततारना**

गरम जल से धोना 220.33

**ततैया**

कीट सूची 122.12

मिड़ 122.34

**ततू**

व्याहृति सूची 741.24

**तत्काल**

शीघ्रत 496.13

समकाल 59.1

**तत्काल चिकित्सा**

तत्काल चिकित्सा 173.6 ⇨

**तत्कालतः**

शीघ्रत 496.13

**तत्कालता**

शीघ्रता 496.1

**तत्काल देय**

बयाना 658.9

**तत्कालधी**

तत्कालधी 301.23 ⇨

**तत्काल प्रश्न**

ज्वलत समस्या 333.12

**तत्काल बुद्धि**

तत्काल बुद्धि 301.2 ⇨

**तत्कालीन**

समकालीन 59.3

**तत्क्षण**

शीघ्र करणीय 496.10

शीघ्रतः 496.13

**तत्क्षणता**

शीघ्र करणीयता 496.2

शीघ्रता 496.1

**तता [तती]**

अति उष्ण 104.20

उष्ण 104.18

धरपरा [धरपरी] 278.12

**तताथेई**

नृत्य बोले सूची 462.27

**ततापन**

धरपरापन 278.1

**तता पानी**

गरम जलस्रोत 21.6

**तताथेथो**

बीच बचाव 877.9

**तत्त्व**

जड़ पदार्थ 78.5

तत्त्व 78.6 ⇨

प्रकृति तीन गुण 762.3

ब्रह्म 764.24

ब्रह्मा 786.1

मन 351.2

मूल तथ्य 820.16

रहस्य 823.7

विष्णु 768.1

संघटक 545.3

सत्य 820.1

सार 84.16

साराश 449.12

**तत्त्वग्राही**

सारग्राही 301.32

**तत्त्वज्ञ**

अध्यात्मज्ञ 761.25

ईश्वर 764.1

दार्शनिक 760.3

मर्मज्ञ 305.35

**तत्त्वज्ञता**

मर्मज्ञता 305.16

**तत्त्व ज्ञान**

अध्यात्म 761.1

आत्मज्ञान 761.4

विज्ञान 307.1

**तत्त्वज्ञानी**

अध्यात्मज्ञ 761.25

दार्शनिक 760.3

विज्ञानी 307.12

**तत्त्वतः**

सत्यतः 820.25

**तत्त्वता**

जड़ता 78.4

वास्तविकता 820.13

**तत्त्वदर्श**

दार्शनिक 760.3

**तत्त्व दर्शन**

दार्शनिक कर्म 760.2

**तत्त्वदर्शी**

अध्यात्मज्ञ 761.25

आत्मज्ञानी 761.28

दार्शनिक 760.3

**तत्त्व निर्णय**

मीमांसा 427.12

**तत्त्व विचार जाना**

विघटित होना 544.12

**तत्त्वमति**

व्याहृति सूची 741.24

**तत्त्व विघटन**

विघटन 544.1

**तत्त्व विचार**

अध्यात्म 761.1

दार्शनिक कर्म 760.2

**तत्त्व विद्या**

दर्शन शास्त्र 760.1

**तत्त्व विषयक**

तत्तीय 78.24

**तत्त्व शास्त्र**

दर्शन शास्त्र 760.1

**तत्त्व संधान**

विरलेषण 427.19

**तत्त्व संधानी**

विरलेषक 427.33

**तत्त्वबन्धान**

आयोजन 655.3

**तत्त्वबन्धानक**

आयोजक 655.19

**तत्तीय**

तत्तीय 78.24 ⇨

**तत्वेता**

अध्यात्मज्ञ 761.25

**तत्पर**

उद्यत 491.15

सन्नद्ध 491.16

**तत्परतः**

आलस्यहीनत 493.16

**तत्परता**

उद्यतता 491.3

**तत्परतापूर्वक**

उद्यतत 491.19

**तत्पर होना**

उद्यत होना 491.7

**तत्परायण**

तल्लीन 331.14

ब्रह्मलीन 755.10

**तत्परचात**

उस के उपरत 39.20

**तत्पुरुष**

ईश्वर 764.1

विष्णु 768.1

**तत्पुरुष मुख**

शिव. मुख सूची 767.6

**तत्र**

उधर 30.8

वहाँ 30.7

**तत्सम शब्द**

उद्गमानुसार शब्द सूची 423.4

**तथा**

और 945.10

वैसा 317.31

सदृश्य 309.20

**तथाकथित**

तथाकथित 821.21 ⇨

स्वघोषित (दावेदार) 897.19

**तथाकथिततः**

तथाकथिततः 821.24 ⇨

**तथाकथितता**

तथाकथितता 821.10 ⇨

**तथागत**

अति अनुपवी 303.18

गंतव्यप्राप्त 1100.6

गीतम बुद्ध 793.1

तीर्थकर 782.1

## तथागति

पारगत 1097.15  
 बोध प्राप्ति 301.29  
 मोक्षगत 257.7  
 सिद्ध साधु 790.30  
**तथागति**  
 गंतव्य प्राप्ति 1100.3  
 बोध प्राप्ति 301.11  
 मोक्ष 257.1  
**तथागतीय**  
 बुद्ध विषयक 793.17  
**तथापि**  
 और भी 945.11  
 तदापि 507.15  
**तथाविध**  
 तदनुकूपी 967.18  
 वैसा 317.31  
**तथास्तु**  
 एवमस्तु 710.30  
**तथास्तु**  
 तथाकथित 821.21  
**तथ्य**  
 तथ्य 820.14 ⇌  
 मूल तथ्य 820.16  
 सत्य 820.1  
**तथ्य कथन**  
 सत्य कथन 820.12  
**तथ्यप्राप्ति**  
 सारप्राप्ति 301.32  
**तथ्यता**  
 सत्यता 820.25  
**तथ्यता**  
 वास्तविकता 820.13  
**तथ्यपरक**  
 तथ्यात्मक 820.24  
**तथ्यपरकता**  
 तथ्यात्मकता 820.15  
**तथ्यपरायण**  
 तथ्यात्मक 820.24  
**तथ्यपूर्ण**  
 तथ्यात्मक 820.24  
**तथ्यपूर्णता**  
 तथ्यात्मकता 820.15  
**तथ्यवादी**  
 सत्यवादी 820.22  
**तथ्यहीन**  
 तथ्यहीन 821.22 ⇌  
**तथ्यहीनता**  
 तथ्यहीनता 821.11 ⇌  
**तथ्य होना**  
 तथ्य होना 820.19 ⇌  
**तथ्यात्मक**  
 घटनामूलक 75.10  
 तथ्यात्मक 820.24 ⇌  
**तथ्यात्मकता**  
 तथ्यात्मकता 820.15 ⇌  
**तथ्यात्मक होना**  
 तथ्य होना 820.19

**तथ्यानवेषण आयोग**  
 तथ्यानवेषण आयोग 336.2 ⇌  
**तथ्यानवेषण**  
 तथ्यानवेषण 336.1 ⇌  
**तथ्यानवेषण करना**  
 तथ्यानवेषण करना 336.16 ⇌  
**तथ्यानवेषित**  
 तथ्यानवेषित 336.23 ⇌  
**तथ्यानवेषी**  
 तथ्यानवेषी 336.24 ⇌  
**तदनंतर**  
 उत्तर काल में 60.17  
 उस के उपरांत 39.20  
**तदनुकूप**  
 तदनुकूपी 967.18  
 वैसा 514.24  
**तदनुकूपी**  
 तदनुकूपी 967.18 ⇌  
**तदनुसार**  
 वैसा 514.24  
**तदबीर**  
 उपाय 517.3  
 प्रयत्न 489.1  
 युक्ति 517.1  
 सुझाव 332.5  
**तदर्थ**  
 उस लिए 507.11  
**तदर्थ (समिति)**  
 अंतरिम कालीन 60.12  
**तदर्थ नियुक्त**  
 तदर्थ नियुक्त 653.39 ⇌  
**तदर्थ नियुक्तता**  
 तदर्थ नियुक्तता 653.22 ⇌  
**तदा**  
 तो 507.13  
**तदाकार**  
 तदनुकूपी 967.18  
**तदा तदा**  
 तब तब 36.29  
**तदापि**  
 तदापि 507.15 ⇌  
**तदुपरांत**  
 उत्तर काल में 60.17  
 उस के उपरांत 39.20  
 तब के उपरांत 39.18  
**तदुपरि**  
 उस के उपरांत 39.20  
**तद्-**  
 वह 316.14  
**तद्काल**  
 मित्र काल 80.1  
**तद्कालीनता**  
 मित्र कालीनता 80.2  
**तद्गत**  
 तत्सून 331.14  
**तद्परायणता**  
 तत्सूनता 331.6

**तदपर्यंत**  
 तब तक 39.15  
**तदपूर्व**  
 उस के पूर्व 60.21  
**तदभव शब्द**  
 उद्गमानुसार शब्द सूची 423.4  
**तद्रूप**  
 वैसा 317.31  
**तद्वत्**  
 वैसा 317.31  
**तन**  
 मध्य भाग 996.3  
 शरीर 139.1  
**तनक**  
 अल्प 942.13  
**तनखीया**  
 मित्रहीन 705.29  
 समूह निर्वासित 870.29  
**तनख्याह**  
 वेतन 643.23  
**तनख्याहदार**  
 वैतनिक 643.40  
**तनख्याहदारी**  
 वैतनिकता 643.22  
**तनख्युली**  
 अवनति 535.1  
**तन तनहा**  
 एकांत 697.21  
**तनदेही**  
 परिश्रम 493.1  
**तनन**  
 ऐतन 392.8  
**तन मन धन से**  
 क्षमतापूर्वक 487.33  
**तनमन सा**  
 अत्यल्प 942.16  
**तन मन से**  
 क्षमतापूर्वक 487.33  
**तनय**  
 पुत्र 718.3  
**तनया**  
 पुत्री 718.10  
**तनसीख**  
 निरसन 338.9  
**तन से**  
 शरीरतः 139.16  
**तनहा**  
 एकांततः 697.21  
 एकाकी 697.14  
**तनहाई**  
 एकांतता 697.3  
**तना**  
 अन्न दंड 1077.12  
 तना 114.7 ⇌  
 धड़ 147.1  
 मध्य भाग 996.3  
**तना [तनी]**  
 अनमित 1025.9

कसा [कसी] 1013.25  
 तना [तनी] 1013.26 ⇌  
 वितानित 600.31  
**तनाई**  
 कर्षण 1051.7  
 तनाई 1013.5 ⇌  
 वितानन 600.4  
**तनाज़ा**  
 कलह 708.1  
 वैमनस्य 706.10  
**तनातनी**  
 वैमनस्य 706.10  
**तनाव**  
 अफारा 163.29  
 तनाव 1013.6 ⇌  
 वैमनस्य 706.10  
**तनाहीन पादप**  
 गुल्म 111.15  
**तनि**  
 अल्प 942.13  
**तनिक**  
 अत्यल्प 942.16  
 अल्प 942.13  
**तनिक सा**  
 अत्यल्प 942.16  
 पुट मात्र 1008.25  
**तनिना**  
 क्षीणकायता 159.4  
 घरहरा शरीर 154.11  
**तनियाँ**  
 तनीदार कुरता 585.35  
**तनिया**  
 तनीदार कुरता 585.35  
**तनी**  
 अल्प 942.13  
 तनी 571.29 ⇌  
**तनीदारः कुरता**  
 तनीदारः कुरता 585.35 ⇌  
**तनु**  
 अल्प 942.13  
 कोमलाग 159.9  
 घरहरा 154.30  
 जन्म कुंडली स्थान 261.8  
 देव मूर्ति 746.1  
 पिंड 976.1  
 विरल 1005.9  
 शरीर 139.1  
 सुजील 155.4  
**तनुज**  
 पुत्र 718.3  
**तनुजा**  
 पुत्री 718.10  
**तनुत्राण**  
 कवच 921.2  
**तनुमध्या**  
 पतली कमर वाली 158.30  
**तनुच्छ**  
 शरीर रोम 135.1

तनू	तपता [तपती]	तपा	उत्पीडित 391.28
प्रजापति 787 1	अति उष्ण 104.20	तपस्वी 789 14	तप्त 104.22 ⇨
तनूजा	तपती	तपा [तपी]	प्रायश्चित्तपूर्ण 813.12
पुत्री 718 10	तापती 20.15	अति उष्ण 104 20	मनोव्यथित 391.28
तनूर	तपती गरमी	तप्त 104 22	तप्तक
तदूर 109 7	कड़ी गरमी 53 8	तपाईं	तपाक 104.23 ⇨
तन्नक मन्नक	तपती दुपहरी	तापन 104.4	तप्त करना
अत्यल्पत 942 24	तप्त मध्याह्न 47 10	तपाक	तपाना 104 16
तन्ना	तपन	उत्साह 491 1	तप्त कर्ता
ताना 576 8	उष्णता 104 1	तपाक से	तप्तक 104.23
तन्नी	ग्रीष्म अनुभूति 53 7	उत्साहपूर्वक 491.17	तप्त कुंभ
तराजू पलड़ा डोरी 962 24	तपन मणि	स्वागतपूर्वक 1059.28	नरक सूची 259 7
तन्मनस्क	आतशी शीशा 283 7	तपानल	तप्त घृत
तल्लीन 331 14	तपनांशु	तप शक्ति 756 23	शुद्ध घी 196 9
तन्मनस्कता	सूर्य 8 1	तपाना	तप्त चिह्न
तल्लीनता 331 6	सूर्य किरण 288 3	तपाना 104.16 ⇨	तप्त चिह्न 407.6 ⇨
तन्मय	तपना	ताप से सुखाना 89 7	तप्त चिह्नित
अभिमुख 1023 9	अति परिश्रम करना 493 7	तपापन	तप्त चिह्नित 407.24 ⇨
तल्लीन 331 14	कड़ी गरमी होना 53 12	तपता 104 3	तप्त चिह्नित करना
ब्रह्मलीन 755 10	तपस्या करना 756 25	तपाव	तप्त चिह्नित करना 407.22 ⇨
भक्तिपूर्ण 752 20	द्रवित होना 80.4	उष्णता 104 1	तपता
समाधिस्थ 755 9	तपनी	तपिया	तपता 104.3 ⇨
तन्मयता	गोदावरी 20 14	तपस्वी 789 14	तप्त मध्याह्न
तल्लीनता 331 6	तपनोपल	तपिषा	तप्त मध्याह्न 47 10 ⇨
ब्रह्मलीनता 755 6	आतशी शीशा 283 7	उष्णता 104.1	तप्त मुद्रा
समाधिस्थता 755.4	तपर्वत	तपी	तप्त चिह्न 407 6
तन्मय हो कर	तपस्वी 789 14	अति परिश्रमी 493 10	तप्ता
ध्यानपूर्वक 331 16	तप शक्ति	तपस्वी 789 14	तप्तक 104.23
तन्मात्रा	तप शक्ति 756 23 ⇨	साधु 790 16	तप्ति
इन्द्रियार्थ 268 9	तपस्वर्या	तपु	ताप 103 1
तन्वीगिनी	तपस्या 756 21	तपाक 104.23	तारुणीश
कोमलागिनी 159 10	तपसी	तपेदिक्र	गुप्तधरी 866 10
तन्वीगी	तपस्वी 789 14	क्षय रोग 163.35	तथ्यान्देवण 336.1
कोमलागिनी 159 10	तपस्या	तपोधन	तारुणीक
छरहरा 154 30	अति परिश्रम 493 3	तपस्वी 789 14	घटान कर्म 954.6
छरहरी 154 31	कठिन परीक्षा 322 12	तपोबल	तारुणीह
तन्वी	तपस्या 756.21 ⇨	तप शक्ति 756 23	आनोद यात्रा 1085.6
कोमलागिनी 159 10	समाधि 755 3	तपोभूमि	मनोरजन 469.1
छरहरी 154.31	तपस्या करना	तपोवन 745 6	विनोद 385 1
तपःशक्ति	तपस्या करना 756.25 ⇨	तपोमय	तारुणीहन
तप शक्ति 756 23	तपस्वी	तपस्वी 789 14	विनोदपूर्वक 385 15
तप	अति परिश्रमी 493.10	तपोमूर्ति	तारुणील
अग्नि 106 1	ऋषि 789.2	ईश्वर 764 1	विवरण 449.8
अति परिश्रम 493.3	कंदाहारी 204.13	तपस्वी 789 14	सविस्तार विवरण 449 11
उष्णता 104.1	तपस्वी 756.22 ⇨	तपोलोक	तारुणील से
तपस्या 756.21	तपस्वी 789.14 ⇨	सात लोक सूची 258 6	विवरणपूर्वक 449.32
ताप 103 1	योगी 756.3	तपोवन	तारुणीली
योगाभ्यास 756.2	संन्यासी 790.11	तपोवन 745.6 ⇨	विवरणात्मक 449.28
समाधि 755.3	तपस्वी (बे.)	तपोव्रत	तव
तपकना	तपस्वी 756.22	तपस्या 756 21	उस बार में 72.9
टपकना 1032.20	तपस्वी पत्र	तपस्वी 789.14	तो 507.13
तप कर	दोना 683.12	तपोशाक्ति	भिन्न काल में 60.15
अति परिश्रम पूर्वक 493.15	तपस्वीय	तप शक्ति 756.23	तबक्रा
तप करना	तपस्वीय 789.28 ⇨	तपीनी	धातु पटल 990.17
तपस्या करना 756.26	तपस्वी राजा	बटमारी 864.33	पत्तर 990.23
तपकर्ता	राजर्षि 789.10	विजित धन 864.28	बकी रकामी 685.6
तपस्वी 789.14	तपस्वी विषयक	तप्त	तबक्रा
	तपस्वीय 789.28	अति उष्ण 104.20	कोटि 938.1

## तबकिया

खाना 671 20  
 जनता 883 5  
 जाति 730 1  
 समाज वर्ग 688 7  
**तबकिया**  
 संस्तरित 990 30  
**तब की**  
 उस बार मे 72 9  
**तब के**  
 उस बार मे 72 9  
**तब के उपरांत**  
 तब के उपरांत 39 18 ⇨  
**तब तक**  
 अवधि मे 39 11  
 तब तक 39 15 ⇨  
**तब तब**  
 तब तब 36.29 ⇨  
**तबदील**  
 स्थानांतरित 653.37  
**तबदीली**  
 परिवर्तन 532 1  
 स्थानांतरण 653.19  
**तब भी**  
 तथापि 507 15  
 तब भी 36 30 ⇨  
**तबर्रा (बे.नमाज़ तबर्रा)**  
 गाली गलीज 433.4  
**तबर्रा (शीआ)**  
 नमाज़ तबर्रा 751 16  
**तबलषी**  
 तबला वादक 461 52  
**तबला**  
 तबला 461.49 ⇨  
**तबला बमका**  
 तबला बमका 461.101 ⇨  
**तबला: बाहिना**  
 तबला: बाहिना 461 50 ⇨  
**तबला: बायीं**  
 तबला: बायीं 461 51 ⇨  
**तबला वादक**  
 तबला वादक 461 52 ⇨  
**तबलिया**  
 तबला वादक 461.52  
**तबलीग**  
 धर्म प्रचार 742 17  
**तब लीं**  
 अवधि में 39 11  
 तब तक 39 15  
**तबस्तलत**  
 खटराग 747.4  
**तब से**  
 तब के उपरांत 39.18  
**तबाबला**  
 स्थानांतरण 653 19  
**तबाबला होना**  
 स्थानांतरित होना 653.28  
**तबाह**  
 नष्ट 531.7  
 1052

**तबाही**  
 नाश 531 1  
**तबीअत**  
 इच्छा 359 1  
 मन 351 2  
 रुधि 400.1  
 स्वभाव 836 4  
 स्वास्थ्य दशा 161.2  
**तबीअत खराब होना**  
 रोगग्रस्त होना 162 4  
**तबीब**  
 हकीम 172 11  
**तबीयत**  
 भोग लिप्सा 363 4  
 स्वास्थ्य दशा 161 2  
**तबील**  
 लंबाई युक्त 965 10  
**तबेला**  
 अश्वशाला 603 20  
 पशुशाला 603.19  
**तभी तभी**  
 तब तब 36 29  
**तमंचा**  
 पिस्तौल 927 3  
**तम**  
 अधिकार 286 1  
 तमोगुण 762 6  
 विषय वासना रूपी अज्ञान 761 2  
**तम (अग्नि)**  
 त्रिदेव सूची 765.10  
**-तम (जैसे: अधिकतम)**  
 तुलनात्मक प्रत्यय सूची 309.17  
**तमक**  
 आदेश 371.1  
 उत्तेजना 371.4  
 उत्साह 491.1  
 झल्लाहट 373.10  
 रुष्टि 374 2  
**तमकना**  
 आदेश आना 371 5  
 क्रुद्ध होना 373.15  
 चीकना 379 6  
 झल्लाना 373.24  
**तमगा**  
 पदक 857 7  
**तमचर**  
 पिशाच 786 8  
 राक्षस 784.1  
 रात्रिचर 48 14  
**तमचूर**  
 नर मुरगी 126.65  
**तमतमाना**  
 आदेश आना 371.5  
 क्रुद्ध होना 373.15  
**तमतमाया [तमतमाई]**  
 क्रुद्ध 373.28  
**तमन**  
 आसावरोध मृत्यु 249.8

**तमन्ना**  
 इच्छा 359 1  
 लालसा 359 5  
**तमर**  
 रौंगा 94 13  
**तमस**  
 अंधकार 286 1  
 अज्ञान अंधकार 306 2  
 तमोगुण 762 6  
 भ्रम 342 1  
 राहु 6 4  
 सम्मोह 367 1  
**तमस्थिनी**  
 रात 48 1  
**तमस्वी**  
 अधिकारपूर्ण 286 14  
**तमस्सुक**  
 ऋण पत्र 633 14  
**तमा**  
 रात 48 1  
**तमाई**  
 निराई 548 31  
**तमाकू**  
 तंबाकू 213.1  
**तमाकू**  
 तबाकू 213 1  
**तमाचा**  
 तमाचा 18 16 ⇨  
 पाणि 150 1  
**तमाचा कसना**  
 तमाचा लगाना 918.27  
**तमाचा जमाना**  
 तमाचा लगाना 918 27  
**तमाचा लगाना**  
 तमाचा लगाना 918.27 ⇨  
**तमाम**  
 अत्यधिक 944 7  
 अनवशिष्ट 954 18  
 अभजित 539 13  
 अधिभक्त 698 11  
 असंक्षिप्त 978.7  
 आघोपात 940.14  
 एकीकृत 698 10  
 कार्य समाप्ति 522 1  
 कार्यान्वित 505.27  
 थोक 666 13  
 पूर्ण रचित 527.16  
 पूर्णांशिक 940 13  
 युतिहीन 1010 25  
 व्यतीत 74.3  
 समापन: उक्ति सूची 522 7  
 समाप्त 942 20  
 समाप्त (कार्य) 522.4  
 सर्व 940.8  
**तमामयुद**  
 नष्ट 531.7  
 समापन: उक्ति सूची 522.7  
 समाप्त (कार्य) 522.4

**तमाल**  
 सुरती 213 4  
**तमालक**  
 तेजपात 281 19  
**तमाल पत्र**  
 सुरती 213 4  
**तमाशाबीन**  
 तमाशाबीन 399.20 ⇨  
 दर्शक 399 4  
**तमाशा**  
 खेल प्रदर्शन 473 2  
 नट खेल 473 9  
 प्रदर्शन खेल 473 1  
 मंच नाटक 463 1  
 मनोरंजक दृश्य 312 7  
 लीला 506.8  
 विलक्षण वस्तु 312 6  
 शो 468 5  
 शोबादा 473 26  
**तमाशाई**  
 खेल दर्शक 473 30  
 दर्शक 399 4  
 मजमेबाज़ 473 22  
 मनोरंजनप्रिय 469 13  
 लीला कर्ता 506 11  
 शोबदेबाज़ 474 41  
**तमाशागीर**  
 मजमेबाज़ 473 22  
**तमाशागीरी**  
 मजमेबाज़ी 473 21  
**तमाशोबाज़**  
 खेल प्रदर्शक 473 29  
 मनोरंजनप्रिय 469 13  
 शोबदेबाज़ 474 41  
**तमाशोबाज़ी**  
 खेल दर्शन 473 3  
 शोबदेबाज़ी 473 27  
**तमिझ नाडु**  
 तमिल नाडु 28.34  
**तमिल**  
 भारत: राष्ट्रभाषा सूची 421.4  
**तमिल नाडु**  
 तमिल नाडु 28.34 ⇨  
**तमिल नाडु: राजधानी**  
 तमिल नाडु राजधानी 28.35 ⇨  
**तमिच्च**  
 अंधकार 286 1  
 अज्ञान 306 1  
 विषय वासना रूपी अज्ञान 761 2  
**तमिच्चहा**  
 शिव 767.1  
**तमिष्ठा**  
 अंधेरी रात 48.3  
 गहन अंधकार 286.2  
**तमिष्ठाभित्तरिका**  
 कृष्णाभित्तरिका नायिका 456 18  
**तमी**  
 आसक्ति 365.1

रात 48 1  
हलदी 281 38  
**तमीचर**  
पिशाच 786 8  
**तमीज़**  
विदेक 301 7  
शिष्टता 733 7  
सभ्यीकरण 733 1  
**तमीज़दार**  
शिष्ट 733 18  
सभ्य 733 13  
**तमीश**  
चद्रमा 8 2  
**तमूरा**  
तबूरा 461 48  
तानपूरा 461 53  
**तमेरा [तमेरी]**  
ताम्रकार 680 32  
**तमोगुण**  
तमोगुण 762 6 ⇨  
त्रिगुण सूची 762 5  
**तमोगुणी**  
तमोगुणी 762 14 ⇨  
**तमोघ्न**  
अग्नि 106 1  
चद्रमा 8 2  
**तमोमणि**  
जुगनू 122 22  
**तमोमय**  
अधकारपूर्ण 286 14  
तमोगुणी 762 14  
**तमोलन**  
पनवाड़िन 213 25  
**तमोली**  
पनवाड़ी 213 24  
**तमोहर**  
आलोकक 285 46  
शिव 767 1  
**तय**  
अनुबधित 339 32  
अवश्यभावी 68 15  
तय (सौदा) 658 14  
नियत 68 16  
निर्णीत 328 12  
निर्धारित 328 14  
प्रारब्धाधीन 260 27  
सकल्पित 500 10  
समाधान कृत 877 24  
**तय (सौदा)**  
तय (सौदा) 658 14 ⇨  
**तय करना**  
अनुबध करना 339 24  
नियत करना 68 12  
**तय पाना**  
अनुबध होना 339 23  
**तयशुबा**  
नियत 68 16  
निर्णीत 328 12

सकल्पित 500 10  
**तय होना**  
दुबिधा मिटना 500 7  
प्रारब्धाधीन होना 260 20  
सौदा तय होना 658 12  
**तरंग**  
आरोह अवरोह क्रम 458 2  
आवेश 371 1  
उत्साह 491 1  
तरंग 1040 1 ⇨  
प्रवाह 1041 1  
भोग मद 210 3  
मद 211 1  
मन तरंग 351 6  
लहर 1040 17  
**तरंग आना**  
तरंगित होना 1040 29  
**तरंग आरोहण**  
सर्फिंग 477 16  
**तरंग उठना**  
तरंगित होना 1040 29  
**तरंग उत्पत्ति**  
तरंगण 1040 15  
**तरंग उत्पादक**  
तरंगायक 1040 31  
**तरंग: एक से दूसरे शिखर तक दूरी**  
तरंग माप 1040 9  
**तरंगकारी**  
तरंगायक 1040 31  
**तरंग क्रीड़ा**  
सर्फिंग 477 16  
**तरंग गति**  
तरंग गति 1035 6 ⇨  
**तरंग घाटी**  
तरंग द्रोणी 1040 14  
**तरंगण**  
तरंगण 1040 15 ⇨  
**तरंग तल**  
तरंग द्रोणी 1040 14  
**तरंग दैर्ध्य**  
तरंग माप 1040 9  
**तरंग द्रोणी**  
तरंग द्रोणी 1040 14 ⇨  
**तरंग पादुका**  
सर्फिंग बोर्ड 588 41  
**तरंग माप**  
तरंग माप 1040 9 ⇨  
**तरंग माला**  
लहर माला 1040 23  
**तरंगमाली**  
समुद्र 24 1  
**तरंगयुक्त**  
लहरयुक्त 1040 32  
**तरंग शिखर**  
तरंग शिखर 1040 13 ⇨  
**तरंगहीन**  
निश्चल 1038 8

**तरंगहीनता**  
निश्चलता 1038 2  
**तरंगा**  
चौखट शीर्ष काष्ठ 609 2  
**तरंगायक**  
तरंगायक 1040 31 ⇨  
**तरंगायली**  
लहर माला 1040 23  
**तरंगिका**  
छोटी तरंग 1040 2  
छोटी लहर 1040 20  
**तरंगिणी**  
नदी 20 1  
**तरंगित**  
असमतल 987 6  
कीरुगेटिड 974 22  
तरंगित 1040 30 ⇨  
**तरंगितता**  
असमतलता 987 1  
तरंगितता 1040 16 ⇨  
**तरंगित होना**  
तरंगित होना 1040 29 ⇨  
**तरंगित्र**  
तरंगायक 1040 31  
**तरंगी**  
भोग सेवी 210 9  
**तरंगी [तरंगिणी]**  
तरंगित 1040 30  
**तरंड**  
घट नौका 1072 17  
नौका 1072 2  
बसी तरंड 252 20  
बेड़ा 1072 51  
**तरंड पादा**  
घट नौका 1072 17  
**तरंडा**  
बेड़ा 1072 51  
**तरंडी**  
नौका 1072 2  
बेड़ा 1072 51  
**तरंत**  
तरंत वर्षा 54 11  
राक्षस 784 1  
**तरंती**  
नौका 1072 2  
**तर**  
अश्रुपूर्ण 387 7  
आर्द्र 88 27  
गति 1042 1  
घाट नौका 1072 26  
नौका 1072 2  
पगा [पगी] 280 31  
रसेदार 201 26  
सिंधित 548 55  
स्निग्ध 197 16  
स्वेदित 215 31  
-तर (जैसे: अधिकतर)  
तुलनात्मक प्रत्यय सूची 309 17

**तर करना**  
आर्द्र करना 88 19  
**तरकश**  
तरकस 926 22  
**तरकस**  
तरकस 926 22 ⇨  
**तरकारी**  
भाजी 201 16  
रसेदार भाजी 201 20  
साग सब्जी 189 1  
**तरकीब**  
कार्य विधि 514 1  
क्रम 991 1  
**तरक्रीब**  
गुर 517 4  
**तरकीब**  
तकनीक 514 4  
युक्ति 517 1  
व्यवस्था 893 5  
सुझाव 332 5  
**तरकीब काम करना**  
युक्ति लगना 517 8  
**तरकीब गिड़ना**  
युक्ति लगना 517 8  
**तरकीब से**  
युक्तिपूर्वक 517 14  
**तरकुल**  
ताड़ 13 8  
**तरकून**  
समोसा 200 22  
**तरक्की**  
उन्नति 534 1  
**तरक्की**  
पदोन्नति 653 12  
**तरक्कीपसंदी**  
प्रगतिवाद 884 16  
**तरक्की होना**  
समृद्ध होना 626 10  
**तरखा**  
तीव्र नदी 20 6  
**तरखान**  
काष्ठ कर्मा 597 24  
**तरछट**  
तलछट 526 7  
**तरजना**  
उंटना 373 25  
धमकाना 373 26  
**तरजीह**  
प्रधानता 852 3  
महत्त्व 852 1  
**तरजुमा**  
अनुवाद 427 6  
**तरण**  
तरण 483.20 ⇨  
तैराकी 483 1  
पार तरण 1097 3  
प्रवहन 1041 2

## तरण कूद

### तरण कूद

तरण कूद 1086 12 ⇨

### तरण खेल

तेराकी 483 1

### तरण ताल

तरण ताल 482.23 ⇨

### तरणशील

तरणशील 483 27 ⇨

### तरणि

सूर्य 8 1

### तरणि तनय

शनि ग्रह 7 8

### तरणि तनुजा

यमुना 20 18

### तरणि छुत

कर्ण 771 47

### तरणी

गाथ स्थल 984 6

नीका 1072 2

### तरणी समुदाय

बेड़ा 1072 51

### तरत

बेड़ा 1072 51

### तरलीब

क्रम 991 1

योजना 520 1

व्यवस्था 893 5

### तरलीबवार

क्रानिक 991 21

### तरलीब से

क्रमशः 991 28

### तरदीद

निरसन 338 9

### तरन तारन

सकट मोचक 910 10

### तरना

पार तरना 1097 10

मोक्ष प्राप्त होना 257.6

### तरनुम

आलाप 458 5

तरनुम 460.22 ⇨

### तरपर

घटुर्दिशत 29 36

### तरक्र

अभिमुखत 1023 15

आयाम 964 1

दिशा 29 1

दिशा मे 29 35

पार्श्व 997 1

### तरक्रदार

पक्षधर 885 33

पक्षपाती 885 35

सहायता दाता 700 25

### तरक्रदारी

पक्षधरता 885 1

पक्षपातपूर्णता 885 2

### तरक्र से

मार्ग से 1098 26

1054

### तरब

बाद्य तार 461 97

### तरबतर

अति आर्द्र 88.28

ससिक्त 1008 29

### तरबूज

खाद्य फल सूची 190 2

तरबूज 190 21 ⇨

### तरबूजा

तरबूज 190 21

### तर माल

धनिक आहार 197 9

पक्का खाना 197 4

स्निग्ध आहार 197 6

### तरमीम

सशोधन 537 4

### तररना

तड़कना 544 14

### तरल

तरल 80.5 ⇨

तरल पदार्थ 79 5

सञ्चल 1037 19

### तरल अवस्था

तरल अवस्था 19 4 ⇨

### तरल औंस

तरल औंस 959 50 ⇨

### तरलः चयन

निथराई 1009 11

### तरल ज्ञाम

तरल ज्ञाम 959.51 ⇨

### तरलता

तरल अवस्था 79 4

तरलता 80.1 ⇨

### तरल पदार्थ

तरल पदार्थ 79 5 ⇨

### तरल भार यान

तरल भार यान 1071 4 ⇨

### तरल माप एकक

तरल माप एकक 958.6 ⇨

तरल में स्वयं बहना: कर्म

प्रवहन 1041 2

### तरल वाहक गाड़ी

तरल भार यान 1071 4

### तरल शोषण

अवशोषण 1002 10

### तरलित

तरल 80 5

सञ्चलित 1037 20

### तरलीभूत

तरल 80 5

### तरस

दया 834 1

सहानुभूति 393 3

### तरस खाना

दया आना 834 9

### तरसना

बहुत प्यासा होना 180 13

### तरसाव

तृषा 180 5

लालसा 359.5

### तरसाँ

परसो 46 15

तरसाँही [तरसाँही]

तृषा कातर 180 21

### तरस्थिनी

फ्लुओरीन 86.8

### तरस्वी

गरुड़ 777 15

वायु 85 1

शिव 767 1

तरस्वी [तरस्थिनी]

साहसी 394 13

### तरह

अनुसार 514 26

कार्य विधि 514 1

काव्य समस्या 694 12

तुक 452 49

विधिपूर्वक 514 19

सादृश्य उक्ति सूची 309 26

### तरह तरह से

विविधत 310 11

### तरह मिसरा

काव्य समस्या 694 12

### तराधु

नीका सूची 1072 3

### तरा [तरी]

सकटमुक्त 910 9

### तराई

आर्द्रण 88 17

तराई 16.14 ⇨

तलहटी 16 13

निम्नता उपमान सूची 983 7

सिचन 548 13

### तराई करना

तराई करना 88 21 ⇨

### तराजू

तराजू 962 9 ⇨

### तराजू

मानदंड 957 5

### तराजू कौटा

तराजू कौटा 962 20 ⇨

### तराजू खंडा

तराजू उडा 962 21 ⇨

तराजू खंडा: वक्र छोर

तराजू उडा वक्र छोर 962.22 ⇨

### तराजू डोरी

तराजू डोरी 962 19 ⇨

### तराजू पलका

तराजू पलका 962.23 ⇨

तराजू पलका: डोरी

तराजू पलका डोरी 962 24 ⇨

### तराजू पासंग

तराजू पासंग 962.25 ⇨

### तराना

गीत 451 19

राग गायन शैली सूची 460.39

### तरानासाज़

गायक 460 17

### तराय

तोप ध्वनि 296 20

### तरापा

रक्षा नीका 1072 32

### तराबोर

अति आर्द्र 88 28

### तरारा

छल्लोंग 1086 10

### तरारा

उत्कीर्णन 406 19

कर्तन 543 1

काट 543 2

फॉक कटाई 543 6

रचना विन्यास 527 8

तरारा (जैसे: संगतरारा)

कर्तक 543 16

### तराशाना

काटना 543 13

### तराशा [तराशी]

कर्तित 543 14

### तरिक

घटवारिया 1080 26

### तरिका

नीका 1072 2

### तरिणी

नीका 1072 2

### तरिञ्ज

समुद्र पोत 1072 40

### तरी

आर्द्रता 88 16

गदा 923 4

जनाना जूता 588 15

जलीय धरातल 25 2

नीका 1072 2

सलीमशाही जूता 588 24

### तरीक्रा

उपाय 517 3

कला शैली 397 14

कार्य विधि 514 1

क्रम 991 1

पाक विधि 195 4

सम्भीकरण 733 1

### तरीक्रे से

युक्तिपूर्वक 517 14

विधिपूर्वक 514 19

व्यवस्थित 893 17

शिष्टत 733 22

### तरीदार

रसेदार 201 26

### तरु

वृक्ष 111 18

### तरु कोटर

तरु कोटर 603.2 ⇨

### तरु जीवन

मूल 112 10



## तलना

### तलना

तलना 195.52 ⇨

### तल पर

उत्तल पर 985 19

### तल पर आना

उबरना 1030 15

### तल पारपथ

लैवल क्रोसिंग 1064 16

### तलप्रक्रुप

उध्धारण 411 1

### तलब

मॉग 656 1

लालसा 359 5

### तलब करना

आवाहन करना 1055 7

### तलबगार

लालसी 359 29

### तलबनामा

समन 875 17

### तलबी

आवाहन 1055 1

### तलमलाना

तड़पना 392 20

### तल मार्ग

पुल नीधे मार्ग 1065 14

### तलमार्जक

इंजर 559 21

### तलमुद

तलमुद 739 15 ⇨

### तलमुद (हिबू)

तलमुद 739 15

### तल में

नितल मे 985 20

### तल मे गड़दा

नितल गड़दा 985 12

### तल में बैठना

डूबना 1031 20

निथरना 1031 23

### तल लोक

पाताल 258 9

### तलवा

तलवा 150 10 ⇨

### तलवार

तलवार 924 7 ⇨

सम्मान तलवार 857.19

### तलवार का खेत

युद्ध क्षेत्र 905 6

### तलवारधारी

तलवारधारी 930 11 ⇨

### तलवार: मूठ

तलवार मूठ 924 11 ⇨

### तलवार म्यान

तलवार म्यान 924 6 ⇨

### तल से उत्तरण

नभोत्तरण 1081 18

### तलस्थ

उत्तलीय 985 16

### तल स्थित

निथरा [निथरी] 1031.33

### तलहटी

तलहटी 16.13 ⇨

### तलहीन

अगाध्य 984 10

### तलांतर

नितल 985 9

### तला

जल नितल 985 10

जूता तला 588 27

तलवा 150 10

निम्नता. उपमान सूधी 983 7

निम्न भाग 983 3

बरतन पेदा 680 26

हथेली कवच 921 11

### तला [तली]

तला [तली] 195 73 ⇨

स्निध्य 197 16

### तला अंडा

तला अंडा 206.7 ⇨

### तलाई

तलाई 195 32 ⇨

तलैया 18 8

### तलाक्र

तलाक्र 804 8 ⇨

तलाक्र: 3 मास 10 दिन

इहत 804 10

### तलाक्र देना

तलाक्र देना 804 23 ⇨

### तलाक्र धन

तलाक्र धन 804 9 ⇨

### तलाक्र लेना

तलाक्र देना 804 23

### तलाक्रशुदा

तलाक्रशुदा 804 27 ⇨

### तला खाना

पक्का खाना 197 4

### तलागार

तहखाना 612 2

### तलातल

सात पाताल सूधी 258 8

### तला तली

नितल 985 9

### तलाबेली

आतुरता 496 3

उद्विग्नता 377 4

लालसा 359 5

### तलामली

लालसा 359 5

### तलाशा

इच्छा 359.1

उद्वेग्य 508.2

खोज 336 4

खोज इच्छा 336 5

जिज्ञासा 305 22

### तलाशा कर्ता

खोजी 336 25

### तलाशाना

खोजना 336 17

### तलाशा प्राप्ति

प्रतिलब्धि 863 3

### तलाशा लेना

खोज पाना 863 6

### तलाशा [तलाशी]

प्रतिलब्ध 863.8

### तलाशी

तलाशी 336 13 ⇨

### तलिका

तोबड़ा 673 7

### तलिम

ई.ट. सड़क 1063 41

खड्ग 924 3

पक्का फ़र्श 610.2

वितान 600 16

### तली

जल नितल 985 10

तलछट 526 7

तलवा 150 10

तलीय 985 14

निम्नता उपमान सूधी 983 7

बरतन पेदा 680 26

### तली में बैठना

निथरना 1031 23

### तलीय

उत्तलीय 985 16

तलीय 985 14 ⇨

### तले

आयोजन मे 655 25

निम्नत 983 6

### तले ऊपर

आरोहत 991 29

### तलेटी

बरतन पेदा 680 26

### तलैया

तलैया 18.8 ⇨

### तलीछ

तलछट 526 7

### तलख

कड़वा [कड़वी] 276 7

### तल्प

तरुत 595 27

दीवान 594 9

पलग 594 10

### तल्पज

क्षेत्रज 716 17

### तल्ला

जूता तला 588.27

मंजिल 612.1

### तल्लीन

अभिमुख 1023 9

तल्लीन 331 14 ⇨

ब्रह्मलीन 755 10

भक्तिपूर्ण 752 20

समाधिस्थ 755 9

### तल्लीनता

तल्लीनता 331.6 ⇨

ब्रह्मलीनता 755 6

समाधिस्थता 755 4

### तल्लीन होना

तल्लीन होना 331.9 ⇨

### तव

तेरा [तेरी] 316 25

### तवक्रुओ

अपेक्षा 359.3

प्रतीक्षा 1057 1

विश्वास 340 1

### तवज्जोह

अनुपेक्षा 184 2

कर्तव्य पालन 895 5

ध्यान 331 1

सत्कार 184 1

### तवा

ग्रामोफोन रिकार्ड 300 16

तवा 682.3 ⇨

लौह शिर कवच 921 6

### तवा कड़ाही देग आदि

पाक भाड 682 1

### तवा केक

पैनकेक 206 10

### तवाजा

सत्कार 184 1

### तवा: तलाई

तवा तलाई 195.34 ⇨

### तवायक्र

वेश्या 807.5

### तवारीख

इतिहास 76 1

### तवालत

लबाई 965 2

### तवासीर

बॉस निर्यास 84 10

### तविष

समुद्र 24 1

### तवे पर तलना

तवे पर तलना 195.54 ⇨

### तशास्त्रीस

रोग निदान 171 2

### तशाइद

हिंसा 251 15

### तशारीक्र आवरी

शुभागमन 1093 2

### तशारीक्र रखना

बैठना 1028.8

### तशारीक्र खाना

शुभागमन करना 1093.7

### तरत

थाल 685 1

थाली 685 2

### तरतरी

ख्यान 685.11

प्लेट 685.3

सरइया 683 11



**तष्ट**

उत्कीर्ण 406 41  
छिला [छिली] 542 18  
**तष्टा**  
विश्वकर्मा 773 44  
**तसक्रीन**  
सांत्वना 393 4  
**तसदीक्र**  
सत्यापन 327 5  
**तसक्रीया**  
विवाद समाधान 877 4  
**तसबीह**  
जपमाला 749 7  
**तसमा**  
धमड़ा तसमा 571 31  
जूता तसमा 571 32  
तसमा 571 30 ⇌  
**तसर**  
टसर रेशम 568 13  
परछा 562 14  
**तरुला**  
चिलमची 679 27  
तसला 685 9 ⇌  
भिक्षा भाड सूची 642 12  
**तसलीम**  
अभियादन 1060 1  
अभियादन उत्तर 1060 22  
स्वागीकरण 1002 4  
**तसल्ली**  
विश्वास 340 1  
सतोष 360 5  
सदेह निवारण 340 7  
सात्वना 393 4  
**तसल्लीबदश्रा**  
विश्वसनीय 340 13  
**तसवीर**  
पोर्ट्रेट 404 2  
**तस्कर**  
युगी तस्कर 864 42  
चोर 864 3  
तस्कर 864 38 ⇌  
**तस्करी**  
चोरनी 864 4  
तस्करी 864 37 ⇌  
**तस्मा**  
तनी 571 29  
**तस्लीम**  
अभियादन स्वीकृति 1060 21  
प्रणाम 1060 13  
**तस्वीर**  
चित्र 404 1  
फोटो 405 1  
वर्णन साहित्य 449 3  
**तस्वीर उतारना**  
चित्राकन करना 404.35  
**तस्वीर छाँचना**  
चित्रांकन करना 404.35

**तह**

तह 975 15 ⇌  
**तह करना**  
तह करना 975 24 ⇌  
सिकोड़ना 980 18  
**तह कर्म**  
तह कर्म 975 16 ⇌  
**तह किया**  
तहाया [तहाई] 975 32  
**तहक्रीक्र**  
तथ्यान्वेषण 336 1  
**तहक्रीक्रात**  
गुप्तचरी 860 10  
तथ्यान्वेषण 336 1  
**तहक्रीक्राली**  
तथ्यान्वेषी 336 24  
**तहख़ाना**  
तहख़ाना 612 2 ⇌  
**तहज़ीब**  
सम्भीकरण 733 1  
**तहज़ीबदार**  
शिष्ट 733 18  
सभ्य 733 13  
**तहत**  
आयोजन मे 655 25  
**तहदार**  
तहदार 975 33 ⇌  
**तहदार मोड़**  
तहदार मोड़ 975 18 ⇌  
**तहपेघ**  
पगड़ी तहपेघ 584 0  
**तहपोशी**  
तहपोशी 587 10 ⇌  
**तहबंद**  
लुगी 586 14  
**तहमत**  
लुगी 586 14  
**तहमद**  
लुगी 586 14  
**तह में जाना**  
तथ्यान्वेषण करना 336 16  
**तह: मोड़**  
तह मोड़ 975 17 ⇌  
**तहरी**  
तहरी 202 3 ⇌  
**तहरीक**  
आदोलन 902 8  
**तहरीकी**  
आदोलन विचयक 902 29  
**तहरीर**  
आलेख 412.17  
लिपिबद्धन 412 2  
**तहरीरी**  
दस्तावेज़ लिखित 412 49  
लिपिबद्ध 412 44  
**तहलका**  
आतंक 395 5  
हलचल 294 12

**तहस नहस**

नष्ट 531 7  
**तहसील**  
उत्पादन कर 647 14  
तहसील 866 6 ⇌  
**तहसीलदार**  
तहसीलदार 866 7 ⇌  
**तहाँ**  
उधर 30 8  
वहाँ 30 7  
**तहाना**  
तह करना 975.24  
**तहाया [तहाई]**  
तहाया [तहाई] 975 32 ⇌  
**तहाया**  
चिन्ता 377 2  
भय 395 1  
**तौगा**  
तौगा 1071 38 ⇌  
**तौगा बग्धी रिक्शा: छत**  
तौगा बग्धी रिक्शा छा 611 15 ⇌  
**तौगे वाला**  
तौगे वाला 1079 7 ⇌  
**तांडव**  
तांडव 462 8 ⇌  
**तांडव तालिक**  
शिव 767 1  
**तांडव नृत्य जयंती**  
शिवरात्रि 57 27  
**तौत**  
तौत 569 5 ⇌  
धनुष प्रत्यघा 926 15  
पक्ति 691 4  
तप-  
गान 120 11  
**तौतघर**  
बुनाई स्थल 562 18  
**तांतव**  
कपड़ा बुनाई 576 4  
तात्विक 569 28  
**तांभय:**  
हाँभय 163 31  
**तौता**  
तारतम्य 1049.3  
पक्ति 691 4  
**तौता बैधना**  
तारतम्य होना 1049 7  
**तौता लगना**  
तारतम्य होना 1049 7  
**तांति**  
श्वसायरोध 245.9  
**तांतिकारक**  
श्वसायरोधक 245 26  
**तौतिया**  
अति क्षीणकाय 159.14  
**तौती**  
कपड़ा बुनकर 576 5

**तांत्रिक**

तंत्रवादी 737 37  
तंत्र साधक 758 4  
तंत्रीय 758 39  
प्रेत साधक 759 13  
**तांत्रिक क्रिया**  
तंत्र क्रिया 758 3  
**तांत्रिक मत**  
वाममार्ग 737 46  
**तांत्रिकवाद**  
तंत्रवाद 737 36  
**तांत्रिक**  
तांत्रिक 569 28 ⇌  
**तौबई**  
तौबई 289.44 ⇌  
**तौबा**  
अष्टधातु सूची 93 6  
तौबा 94 8 ⇌  
**तौबा-जस्ता: मिश्रण**  
पीतल 94 10  
**तौबा स्वर्ण: मिश्रण**  
गिनी गोल्ड 95 7  
**तौबिया**  
तौबई 289 44  
**तांबूल**  
पान पत्ता 213 17  
षोडशोपचार सूची 750 4  
**तांबूल ग्रहण**  
सोलह सिंगार सूची 222 3  
**तांबूल पेटिका**  
पानदान 213 28  
**तांबूल राग**  
पान लाली 213 23  
**तांबूली**  
पानवाड़ी 213 24  
**ताई**  
उष्णता 104 1  
छिछली कड़ाही 682 8  
ताई 722.21 ⇌  
**ताईद**  
अनुमोदन 329 2  
सपुष्टि 337 8  
साधुवाद 841 20  
**ताईद करना**  
साधुवाद करना 841.27  
**ताउन**  
प्लेग 163 8  
**ताउन्न**  
आयु पर्यंत 229 28  
**ताऊ**  
ताऊ 722 20 ⇌  
परदा निषिद्ध संबंधी सूची 591.7  
**ताऊन**  
प्लेग 163 8  
**ताऊ: पत्नी**  
ताई 722 21  
**ताऊस**  
मोर 126 68

## ताऊ ससुर

**ताऊ ससुर**  
 तायसरा 724 10  
**ताऊ**  
 आला 671 18  
**ताक**  
 घात प्रतीक्षा 914 1  
 ताक 284 14 ⇨  
 भाँप 301 14  
**ताकझाँक**  
 ताकझाँक 284 12 ⇨  
**ताकझाँक करना**  
 टिपाई करना 322 35  
**ताक़त**  
 ऊर्जा 101 1  
 क्षमता 487 7  
 प्रहार सहन शक्ति 920 2  
 वश 899 13  
 शक्ति 487 1  
 शारीरिक बल 160 2  
**ताक़तवर**  
 बलिष्ठ 160 10  
 शक्तिशाली 487 20  
**ताक़तवरी**  
 बलिष्ठता 160 1  
 शक्तिशालिता 487 2  
**ताक़ता [ताक़ती]**  
 ताकने वाला 284 53  
**ताक़ते हुए**  
 ताक़ते हुए 284 57 ⇨  
**ताक़ना**  
 टिपाई करना 322 35  
 ताकना 284 41 ⇨  
 बोध करना 301 18  
 लक्ष्य साधना 931 15  
**ताक़ने वाला**  
 ताक़ने वाला 284.53 ⇨  
**ताक में बैठना**  
 घात लगाना 914 12  
**ताक लेना**  
 भाँपना 301 19  
**ताकझाँकी**  
 ताकझाँक 284 12  
**ताक़ीद**  
 चेतावनी 917 2  
**ताखा**  
 आला 671.18  
 परकोटा अस्त्र छिद्र 604 15  
**तागड़**  
 कैटवाक 1065 4  
 छतदार सीढ़ी 613 7  
**तागा**  
 धागा 569 7  
 सूती धागा 569 22  
**ताज**  
 मुकुट 584 14  
 शिखा 137 10  
**ताज़गी**  
 अथकान 493.5

**ताज़गी** 197.14 ⇨  
 नवीनता 64 3  
 प्रस्फुटन 119 1  
 स्फूर्ति 491 2  
**ताजदार**  
 राजा 882 6  
**ताजन**  
 हँकाई 1079 11  
**ताज़पोश**  
 मुकुटधारी 899 18  
**ताज़पोशी**  
 मुकुट धारण 899 17  
**ताज़ा [ताज़ी]**  
 अनथका 493 13  
 अम्लान 119 14  
 ताज़ा [ताज़ी] 197 43 ⇨  
 नवीन 64 10  
 नवीनतम 64 11  
 परिवर्तित 532.16  
 स्फूर्त 491 13  
**ताज़ादम**  
 अनथका 493 13  
 द्रुत 1044 6  
**ताज़ापन**  
 ताज़गी 197 14  
**ताज़ा हवा**  
 शुद्ध वायु 85 3  
 सचल वायु 85 4  
**ताज़िए**  
 मुहरम जुलूस 1088.13  
**ताज़िया: दफ़नगाह**  
 ताज़िया: दफ़नगाह 254 17 ⇨  
**ताज़िर**  
 व्यापारी 657 2  
**ताज़ीम**  
 अभिवादन 1060 1  
 प्रणाम 1060 13  
**ताज़ीर**  
 दड 870 1  
**ताज़ीरात**  
 दड सहिता 878 10  
**ताज़ीरात (बाहु)**  
 दड 870 1  
**ताज़ीराते हिंद**  
 भारतीय दड सहिता 878 11  
**ताज़्जुब**  
 आश्चर्य 379 1  
**ताडका**  
 ताडका 784 24  
**ताडंब**  
 शिव नृत्य 767.15  
**ताड**  
 ताड 13 8 ⇨  
 भाँप 301 14  
**ताडक [ताडका]**  
 मारने वाला 251.26  
**ताडका**  
 ताडका 784.24 ⇨

**राक्षस स्त्री सूची** 784 23  
**ताडका: पुत्र**  
 मारीच 784 8  
**ताडकारि**  
 राम 770 1  
**ताड कुंज**  
 ताड कुंज 12.24 ⇨  
**ताडकेय**  
 मारीच 784.8  
**ताडदाना**  
 तिहलन सूची 196 14  
 सागुदाना 192 19  
**ताडन**  
 पिटाई 918 9  
**ताडना**  
 डॉट 373 11  
 डॉटना 373 25  
 पिटाई करना 918 23  
 प्रहार करना 918 21  
 बोध करना 301 18  
 भाँपना 301 19  
**ताड निर्यास**  
 ताड निर्यास 84 9 ⇨  
**ताड: मद्य**  
 ताड मद्य 209.9 ⇨  
**ताडित**  
 डॉटा [डॉटी] 373 33  
 पिटा [पिटी] 918 34  
**ताडी**  
 ताड निर्यास 84 9  
 ताड मद्य 209 9  
 देसी शराब 209 3  
**तालगु**  
 घाघा 722 22  
 ताऊ 722 20  
**तालल**  
 परिपाद्यन 195 19  
 पित्रातुल्य 720 21  
 पैतृक 727 43  
**तालाहीन**  
 पिताहीन 719.6  
**ताला [ताली]**  
 अति उष्ण 104.20  
 उष्ण 104 18  
 तप्त 104 22  
**तालाथेई**  
 नृत्य बोल सूची 462.27  
**तालाथैया**  
 नृत्य बोल सूची 462.27  
**तालि**  
 कुल परपरा 795.4  
**तालील**  
 दीर्घ अवकाश 494 17  
 विश्राम काल 494.2  
**तालालिक**  
 शीघ्र करणीय 496 10  
**तालालिकता**  
 शीघ्र करणीयता 496.2

**शीघ्रता** 496 1  
**तात्त्व**  
 तत्त्वीय 78.24  
**तात्त्विक**  
 तत्त्वीय 78 24  
**तात्त्विकता**  
 वास्तविकता 820 13  
**तात्पर्य**  
 अर्थ 426 1  
 उद्देश्य 508 2  
 मूल तथ्य 820 16  
 साराश 449 12  
**तात्पर्य वृत्ति**  
 वाक्य शक्ति 426 7  
**ताथेई**  
 नृत्य बोल सूची 462 27  
**तादात्म्य**  
 अद्वैत भाव 752 8  
 एकाकारता 967 3  
 घनिष्ठता 704 13  
 साधारणीकरण 399 16  
**तादाद**  
 कुल सख्या 949.2  
 सख्या 948 1  
**तादृश्य**  
 सादृश्य 309 3  
**ताधा**  
 नृत्य बोल सूची 462 27  
**तान**  
 आलाप 458 5  
 तनाव 1013 6  
 तान 458 15 ⇨  
 वशी तान 458 16  
 वस्त्र सायबान 615 4  
 विस्तार 981 2  
 संगीत तर्ज 458 14  
 स्वर अलंकार 465.10  
 रवर भंगिमा 299 4  
**तान छेड़ना**  
 गाना 460 43  
**तानना**  
 तानना 1013.19 ⇨  
 वितानित करना 600.28  
**तानने वाला**  
 वितानक 600.32  
**तानपुरा**  
 तानपुरा 461 53  
**तानपुरा**  
 तानपुरा 461.53 ⇨  
**तानयुक्त गायन शैली**  
 बोलतान 458 17  
**तान स्वर कंपन**  
 गिटकिरी 458.12  
**ताना**  
 कटाक्ष 844.3  
 कटु वचन 432.3  
 तपाना 104.16  
 ताना 578.8 ⇨

वस्त्र लबाई 579.21  
 ताना: कंधी ,  
 ताना: कंधी 562.17 ⇨  
 तानाकेश  
 कटाक्ष कर्ता 844.14  
 तानाबाना  
 तानाबाना 576.7 ⇨  
 रचना विन्यास 527.8  
 ताना बुनावट  
 ताना बाना बुनावट 576.12 ⇨  
 ताना भारना  
 कटाक्ष करना 844.7  
 ताना लगना  
 कटाक्ष लगना 844.8  
 तानाशाह  
 तानाशाह 882.28 ⇨  
 तानाशाही  
 एकत्र 881.21  
 तानाशाही 881.23 ⇨  
 तानाशाही 884.2 ⇨  
 हेकड़ी 734.10  
 तानाशाही राज्य  
 तानाशाही 881.23  
 तानेबाज़  
 कटाक्ष कर्ता 844.14  
 ताने बाने की तरह बुना  
 ताने बाने की तरह बुना 576.29 ⇨  
 ताने बाने की तरह बुनापन  
 ताना बाना बुनावट 576.12  
 ताप  
 उबाल 91.2  
 उष्णता 104.1  
 क्रोध 373.1  
 ग्रीष्म अनुभूति 53.7  
 ज्वर 163.19  
 ज्वर ताप 163.21  
 तपस्या 756.21  
 ताप 103.1 ⇨  
 ताप क्रम 103.4  
 तापमान 103.2  
 दुःख 391.1  
 प्रताप 849.5  
 तापक  
 तप्तक 104.23  
 रजोगुण 762.7  
 हीटर 104.11  
 ताप क्रम करना  
 शीतल करना 105.16  
 तापकारी  
 तप्तक 104.23  
 ताप क्रम  
 ताप क्रम 103.4 ⇨  
 तापक्रम दर्शाक  
 थर्मामीटर 103.3  
 ताप तिल्ली  
 प्लीहा 132.16  
 तापती  
 तापती 20.15

ताप त्रय  
 दुःख त्रय 391.5  
 तापन  
 तापन 104.4 ⇨  
 तापना  
 तपाना 104.16  
 तापना 104.17 ⇨  
 ताप नियमन  
 ताप नियमन 105.13 ⇨  
 ताप नियमित्र  
 ताप नियमित्र 105.14 ⇨  
 ताप नियमित्र (प्र)  
 ताप नियमित्र 105.14  
 ताप नियामक  
 ताप नियमित्र 105.14  
 ताप बबाना  
 तपाना 104.16  
 तापमान  
 तापमान 103.2 ⇨  
 ताप माप  
 ताप क्रम 103.4  
 तापमान 103.2  
 ताप माप एकक  
 ताप माप एकक 958.7 ⇨  
 ताप मापी  
 थर्मामीटर 103.3  
 तापयुक्त  
 तप्त 104.22  
 ताप वर्धक  
 तप्तक 104.23  
 ताप वर्धन  
 तापन 104.4  
 ताप संतुलित्र  
 ताप संतुलित्र 105.15 ⇨  
 ताप संतुलित्र (प्र)  
 ताप संतुलित्र 105.15  
 तापस  
 तपस्वी 789.14  
 तपस्वीय 789.28  
 तेजपात 281.19  
 दोना 683.12  
 बगला 126.54  
 ताप से सुखाना  
 ताप से सुखाना 89.7 ⇨  
 तापहर  
 शीतलक 105.22  
 ताप हरना  
 शीतल करना 105.16  
 तापहीन  
 अनुष्ण 104.19  
 शीतल 105.19  
 तापांक  
 तापांक 103.11 ⇨  
 तापांक मापी  
 थर्मामीटर 103.3  
 तापानुभूति  
 ताप 103.1

तापाल्पता  
 शीतलता 105.1  
 तापिज  
 माक्षिक धातु 92.9  
 तापित्र  
 बायलर 109.21  
 तापित्र (प्र)  
 रूम हीटर 104.12  
 यातानुतापित्र 104.10  
 हीटर 104.11  
 तापी  
 तप्तक 104.23  
 तापती 20.15  
 तापती  
 तापती 20.15 ⇨  
 भारत उपमहाद्वीप नदी सूची 20.7  
 ताप्य  
 माक्षिक धातु 92.9  
 ताप्ला  
 ताप्ला 580.24 ⇨  
 ताब  
 उष्णता 104.1  
 क्षमता 487.7  
 ताप 103.1  
 धैर्य 394.6  
 प्रताप 849.5  
 प्रहार सहन शक्ति 920.2  
 साहस 394.1  
 ताबकतोड़  
 अविरामत 1049.16  
 शीघ्रत 496.13  
 तापी  
 ताप्ला 580.24  
 त.बीज  
 गडा तावीज 759.4  
 ताबूत  
 ताबूत 254.7 ⇨  
 संदूक 676.15  
 ताबेदार  
 आज्ञा पालक 347.12  
 वशाधीन 901.9  
 संवक 651.25  
 ताबेदारी  
 परिचर्या 651.6  
 सेवा 651.1  
 ताम्रजान  
 ताम्रजाम 1071.23  
 ताम्रजाम  
 खटराग 747.4  
 ताम्रजाम 1071.23 ⇨  
 व्यवस्था 893.5  
 ताम्रधान  
 ताम्रजाम 1071.23  
 ताम्ररस  
 ताँबा 94.8  
 ताम्रलोट  
 टामचीनी बरतन 680.15

तामस  
 अधकार 286.1  
 अज्ञ 306.16  
 अज्ञान 306.1  
 अज्ञानपूर्ण 306.11  
 कुटिल 818.7  
 चिढ़ 373.9  
 पापी 812.12  
 तामस [तामसी]  
 तमोगुणी 762.14  
 तामस मनु  
 मनु सूची 788.4  
 तामसिक  
 तमोगुणी 762.14  
 सामिष 205.3  
 तामसिकता  
 सामिषता 205.1  
 तामसी  
 अंधेरी रात 48.3  
 महाकाली 776.4  
 तामसी पूतना  
 पूतना 784.25  
 तामिस्र  
 नरक सूची 259.7  
 तामीर  
 भवन निर्माण 598.1  
 रचना कर्म 527.1  
 तामील  
 आज्ञा पालन 347.6  
 कार्यान्वयन 505.5  
 समन प्रस्तुति 875.18  
 तामोल  
 पान पत्ता 213.17  
 ताम्र  
 ताँबाई 289.44  
 ताँबा 94.8  
 ताम्रकर्णी  
 दिग्गज पत्नी सूची 780.4  
 ताम्रकार  
 ताम्रकार 680.32 ⇨  
 ताम्रकुट्टक  
 कास्यकार 680.31  
 ताम्रकार 680.32  
 ताम्रकूट  
 तंबाकू 213.1  
 ताम्रकूटी  
 निकोटीन 213.2  
 ताम्र कुमि  
 बीर बहूटी 122.32  
 ताम्रचूक  
 नर मुरगी 128.85  
 ताम्र द्वीप  
 श्रीलंका 27.17  
 ताम्रपत्र  
 ताम्रपत्र 77.8 ⇨  
 ताम्र पत्र  
 प्रहंसा पत्र 841.9

## ताम्रपत्र

**ताम्रपत्र**  
सम्मान फलक सूची 857 15  
**ताम्र पदक**  
ताम्र पदक 857 10 ⇨  
**ताम्र फलक**  
ताम्रपत्र 77 8  
**ताम्रवर्ण**  
श्रीलंका 27 17  
**ताम्र शासन**  
ताम्रपत्र 77 8  
**ताम्रसत**  
निकोटीन 213 2  
**ताम्रार्थ**  
कौसा 94 2  
**ताम्रिक**  
ताम्रकार 680 32  
**ताम्री**  
जलघड़ी 50 17  
**ताम्रोपजीवी**  
ताम्रकार 680 32  
**ताय**  
उष्णता 104 1  
**तायस**  
तायस 724 11 ⇨  
**तायसरा**  
तायसरा 724.10 ⇨  
**तायसरा: पत्नी**  
तायस 724 11  
**ताया**  
ताऊ 722 20  
**ताया ससुर**  
तायसरा 724 10  
**तार**  
अलगनी 1024 6  
उच्च 982 7  
करताल 461 25  
तान 458 15  
तार 569 24 ⇨  
तारतम्य 1049 3  
पक्ति 691 4  
प्रधार 1032 8  
बिजली तार 102 8  
माला धागा 569 8  
वाद्य तार 461 97  
सकट मोचक 910 10  
सूती धागा 569 22  
**तार (दे.)**  
ततु 569 1  
**तारक**  
असुर वध कर्ता 251 28  
असुर सूची 783 8  
तारा 3 2  
दानव सूची 783 13  
दैत्य सूची 783 19  
नक्षत्र 4 5  
नाविक 1080 21  
नीका 1072 2  
शिव 767 1

सकट मोचक 910 10  
हठयोग 756.11  
**तार कवच**  
जजीर कवच 921 4  
**तारकगी**  
जरकशी 577 17  
**तारका**  
उल्का 3 6  
नेत्र पुतली 141 5  
**तारकाणु**  
उल्का खंड 3 7  
**तारकाभ**  
उल्का 3 6  
**तारकारि**  
स्कंद 773 50  
**तारकिणी**  
तारो भरी रात 48 2  
**तारकित**  
तारायुक्त 3 16  
**तारकी**  
तारायुक्त 3 16  
**तारकीय**  
तारकीय 3.14 ⇨  
**तारकेश्वर**  
शिव 767 1  
शिवलिंग सूची 746 17  
**तार खूँटा**  
मकरी 1073 36  
**तारण**  
असुर वध 251.4  
जल अवतारण 1080 9  
पार उत्तारण 1097 4  
सकट मोचन 910 1  
**तारणी**  
नीका 1072 2  
**तारणीय**  
जलगम्य 1080 47  
**तारणीयता**  
जलयान जलगम्यता 1080.29  
**तारतम्य**  
क्रम 991.1  
तारतम्य 1049.3 ⇨  
**तारतम्य क्रम से**  
तारतम्यपूर्वक 1049 22  
**तारतम्यपूर्ण**  
तारतम्यपूर्ण 1049.12 ⇨  
**तारतम्यपूर्वक**  
तारतम्यपूर्वक 1049.22 ⇨  
**तारतम्यहीन**  
क्रमहीन 992 5  
**तारतम्यहीनतः**  
क्रमहीनत 992 7  
**तारतम्यहीनता**  
क्रमहीनता 992 1  
**तारतम्य होना**  
तारतम्य होना 1049 7 ⇨  
**तार तार**  
विदीर्ण 544 18

**तार तार करना**  
भजित करना 539.8  
**तारदोर**  
तार रस्सा 569.25  
**तारनहार**  
असुर वध कर्ता 251 28  
नाविक 1080 21  
सकट मोचक 910 10  
**तारना**  
असुर वध करना 251.20  
जलावतारण करना 1080.37  
सकट दूर करना 910.6  
**तार पिन**  
स्टैपल 417 10  
**तारपीडो**  
तारपीडो 1072 47 ⇨  
**तारपीडो (अँ)**  
तारपीडो 1072 47  
**तारपीन**  
गधा बिरोजा 1012 10  
तारपीन 290.24 ⇨  
**तारपीन: तेल**  
तारपीन 290.24  
**तार बंधनी**  
वाद्य खूँटी 461 95  
**तारबद्ध**  
तारतम्यपूर्ण 1049.12  
**तार माक्षिक**  
रूपामाखी 92 10  
**तारयिता**  
असुर वध कर्ता 251 28  
नाविक 1080.21  
**तारयुक्त**  
तारयुक्त 569.32 ⇨  
**तार: रस्सा**  
तार रस्सा 569.25 ⇨  
**तारल**  
अस्थिर 1037.22  
**तारल्य**  
अस्थिरता 1037.6  
**तार वाद्य**  
तत वाद्य 461 17  
**तार बाला**  
तारयुक्त 569 32  
**तार सप्तक**  
सप्तक सूची 459.4  
**तारांगण**  
तारांगण 1.8 ⇨  
**तारांत (प्र)**  
ब्लैक होल 3 5  
**तारा**  
तारा 3.2 ⇨  
तारा देवी 774.39  
दुर्गा 776 7  
पंचकन्या सूची 774.18  
प्रारब्ध 260.1  
बाली. पत्नी 781 14

**तारा [तारिका]**  
स्टार 464.17  
**तारा उगना**  
साया आरंभ होना 799 53  
**तारा कुमार**  
अगद (वानर) 781 8  
**तारा कूट**  
जन्म पत्री विद्यार 799.33  
**ताराग्रह**  
ग्रहपंचक योग 261.32  
**तारा छिपना**  
साया समाप्त होना 799 54  
**तारा बुबना**  
साया समाप्त होना 799 54  
**तारा देवी**  
तारा देवी 774.39 ⇨  
**ताराधिप**  
चंद्रमा 8 2  
बृहस्पति ग्रह 7.6  
शिव 767 1  
**तारानाथ**  
चंद्रमा 8 2  
**तारा निकलना**  
साया आरंभ होना 799 53  
**तारापति**  
बाली 781.13  
सुग्रीव 781 17  
**तारापथ**  
आकाश 2.1  
**तारा: पिता**  
सुषेण 781 18  
**ताराभ**  
तारे जैसा 3 15  
**तारायुक्त**  
तारायुक्त 3 16 ⇨  
**तारावती**  
आकाश गंगा 1 14  
**तारा वर्षा**  
उल्का पात 3 8  
**ताराचम**  
उल्का खंड 3 7  
**ताराहीन**  
ताराहीन 3.17 ⇨  
**तारिका**  
अभिनेत्री 464 6  
**तारित**  
पार तरित 1097 16  
**तारी**  
गहन प्रभावी 511 19  
वाद्य कुजी 461.94  
**तारीक**  
अधकारपूर्ण 286 14  
काला 289 37  
**तारीकी**  
अंधकार 286 1  
**तारीख**  
अंतिम दिन 39.4  
इतिहास 76.1

- तारीख 44.1 ⇨  
पुण्य दिवस 58.3
- तारीखी**  
ऐतिहासिक 78 10
- तारीक**  
ख्याति 847 1  
परिचय 315 1  
परिभाषा 317 1  
प्रशंसा 841 1  
लक्षण 317.5  
विशेषण 425 11
- तारीक के पुल बाँधना**  
प्रशंसा करना 841 24
- तारीकशुदा**  
प्रशंसित 841 29
- तारे गिनना**  
आतुर प्रतीक्षा करना 1057 6  
सो न पाना 265 6
- तारे जैसा**  
तारे जैसा 3 15 ⇨
- तारे तोड़ना**  
कठिन कार्य करना 487 17
- तारेय**  
अगद (वानर) 781 8  
बुध ग्रह 7 5
- तारेरा**  
चंद्रमा 8 2
- तारो भरा**  
तारायुक्त 3 16
- तारों भरी रात**  
तारो भरी रात 48.2 ⇨
- तार्किक**  
तर्क शास्त्री 325.26  
तर्कीय 325 20  
तार्किक 325 24 ⇨
- तार्क्य**  
पक्षी 126.1
- तार्य**  
जलगम्य 1080.47
- ताल**  
अभिनय गति 464.22  
छोटा तालाब 18.11  
जलाशय 18.2  
तरण ताल 482.23  
ताड़ 13 8  
ताल 458.23 ⇨  
तालाब 18.10  
पल्ला 990.9  
पाणि पेट 150.2  
प्राकृतिक जलाशय 18.5  
बालिशत 150.5  
मैत्रीता 461 70  
मात्रिक गण सूची 452.45
- ताल (वे.)**  
ताली ध्वनि 296.3
- ताल अक्षरमञ्जरी**  
तालहीनता 458.26
- तालकेतु**  
बलराम 771.74  
भीष्म 771.77
- ताल क्रिया: विश्राम**  
ताल मान 458 36
- तालक्षीर**  
ताड़ निर्यास 84.9
- ताल ठोकना**  
जॉय ठोकना 917 7  
पुट्टे ठोकना 917 8
- ताल तलैया**  
जलबहुल भूमि 25 4
- ताल देने वाला व्यक्ति**  
ताल धारक 458 24
- ताल धारक**  
ताल धारक 458 24 ⇨
- तालपत्र**  
तालपत्र 41 7 ⇨
- ताल पद**  
ताल पद 458.30 ⇨
- ताल पर होना**  
नियमित होना 71 6
- ताल: प्रकार सूची**  
ताल प्रकार सूची 458 27 ⇨
- तालबद्ध**  
स्वर सामंजस्यपूर्ण 460 45
- तालबद्धता**  
नियमितता 71 2
- ताल बोल**  
ताल बोल 458 31 ⇨
- ताल बोल: अप्रधान बोल**  
ताल बोल अप्रधान बोल 458.32 ⇨
- ताल बोल: प्रधान बोल**  
ताल बोल प्रधान बोल 458 33 ⇨
- तालमय**  
संगीतमय 457 43
- ताल मात्रा**  
ताल मात्रा 458 34 ⇨
- संगीत मात्रा 458 21**
- ताल मात्रा: प्रकार सूची**  
ताल मात्रा प्रकार सूची 458 35 ⇨
- ताल मान**  
ताल मान 458.36 ⇨
- ताल मिलाना**  
स्वर मिलाना 460 42
- तालमुद**  
तलमुद 739 15
- तालमेल**  
तालयुक्तता 458 25  
सहभावना 352.15  
सामंजस्य 702 1  
स्वर सामंजस्य 480 15
- तालयुक्त**  
तालयुक्त 458.59 ⇨
- तालयुक्तता**  
तालयुक्तता 458.25 ⇨
- ताल लय**  
ताल लय 458.37 ⇨
- ताल लय: प्रकार सूची**  
ताल लय. प्रकार सूची 458.38 ⇨
- ताल वाद्य**  
वाल वाद्य 461 13 ⇨
- तालव्य वर्ण**  
उच्चारण स्थानानुसार वर्ण सूची 411 11
- ताल: सम**  
ताल सम 458.28 ⇨
- ताल सामंजस्य**  
तालयुक्तता 458 25
- ताल सामंजस्यपूर्ण**  
तालयुक्त 458.59
- ताल स्थिति काल**  
ताल मात्रा 458 34
- तालस्वरयुक्त गायक**  
गलेबाज़ 460.24
- तालस्वरयुक्त गायन**  
गलेबाज़ी 460 23
- तालस्वरवाही वाद्य**  
उभयवादी वाद्य 461 15
- तालस्वरहीन गायन**  
गुनगुनाहट 460 21
- तालहीन**  
तालहीन 458 60 ⇨
- संगीतहीन 457 44**
- तालहीनता**  
तालहीनता 458.26 ⇨
- तालहीन वाद्य**  
स्वरवाही वाद्य 461 14
- तालांक**  
आरा 559 2
- तालपत्र 415 7**  
शिव 767 1
- ता.जा**  
ताला 609 24 ⇨
- ताला कुश्ती**  
जरासंधी कुश्ती 486 13  
जामवती कुश्ती 486 12
- तालाबंदी**  
तालाबंदी 902 16 ⇨
- तालाब**  
तरण ताल 482.23  
तालाब 18.10 ⇨
- तालाब: गहरा भाग**  
तालाब. गहरा भाग 18 12 ⇨
- तालाब: सीढ़ियाँ**  
तालाब सीढ़ियाँ 18.13 ⇨
- तालिक**  
बस्ता 673.11
- तालिका**  
इंडेक्स 993.8  
घाबी 609 26  
बालिशत 150.5  
सारणी 993 10  
सूची 993 1  
सूची पुस्तक 442.11
- तालित**  
रंगीन वस्त्र 578.18
- तालित संगीत**  
वाद्य संगीत 457 4
- तालिब**  
इच्छुक 359 21  
लालसी 359 29
- तालिब इल्म**  
छात्र 323 26
- ताली**  
घाबी 609.26  
ताली 458.50 ⇨  
ताली ध्वनि 296.3  
पाणि 150 1  
शिव 767.1  
शीशम 13 22
- ताली ध्वनि**  
ताली ध्वनि 296.3 ⇨
- ताली पीटना**  
ताली पीटना 296.24 ⇨
- ताली बजाना**  
ताली बजाना 296 23 ⇨
- तालीम**  
शिक्षा 321 1
- तालीमयात्रा**  
शिक्षित 321 41
- तालीमी**  
शैक्षिक 321.37
- तालु**  
उच्चारण स्थान सूची 411 10  
तालु 143 10 ⇨
- तालु: उच्चतम भाग**  
मूर्धा 143 11
- तालुमूल**  
सहस्रार 757 6
- तालुमूल ग्रंथि**  
गलफू 145 12
- तालु**  
तालु 143 10
- तालैक्य**  
तालयुक्तता 458 25
- तालीदम्ब**  
जलाशयज 18 18
- ताल्मुक**  
व्यवहार 703 2  
सम्बन्ध 715 1
- ताब**  
अति क्रोध 373 2  
उष्णता 104 1  
कागज़ पटल 990 5  
कागज़. शीट 415.10  
ताप 103 1
- ताब पर**  
उपयुक्त अवसर पर 70 16
- तावान**  
अर्थ दंड 870 7  
कृति पूर्ति 634.16  
डिम्बरेज 670 8
- तावीज़**  
गंडा तावीज़ 759.4

ताश

**ताश**  
 जरी 569 13  
 ताश खेल 478.10  
 घूत सूची 481 2  
 पीपा 678 13  
**ताशा खेल**  
 ताशा खेल 478.10 ⇨  
**ताशा: गड़डी**  
 ताशा गड़डी 686.13 ⇨  
**ताशा चाल**  
 ताशा चाल 478.20 ⇨  
**ताशा पत्ता**  
 ताशा पत्ता 479.15 ⇨  
**ताशा प्राप्तांक**  
 ताशा प्राप्तांक 475.34 ⇨  
**ताशा: बड़ा पत्ता**  
 ताशा. बड़ा पत्ता 479.18 ⇨  
**ताशा रंग**  
 ताशा रंग 479.17 ⇨  
**ताशा रंग सूची**  
 ताशा रंग सूची 479.18 ⇨  
**ताशा**  
 ताशा 461.54 ⇨  
 पीपा 678 13  
 मगल वाद्य सूची 796 12  
**ताशी छो ज़ांग (स्थानीय)**  
 भूटान राजधानी 27.14  
**तासा**  
 ताशा 461 54  
**तासीर**  
 प्रभाव 511 1  
 लक्षण 317 5  
**तास्सुबी**  
 मतांघ 343 18  
**ताहम**  
 और भी 945 11  
 तदापि 507 15  
**ताहिरी**  
 तहरी 202 3  
**तित्तिडी**  
 इमली 277 8  
**तिदिश**  
 टिंडा 189 22  
**ति**  
 तीन 948 21  
**तिकड़म**  
 कूट युक्ति 819.8  
**तिकड़म करना**  
 कूट युक्ति करना 819 13  
**तिकड़म भिड़ाना**  
 कूट युक्ति करना 819 13  
**तिकड़मी**  
 कूट युक्ति कर्ता 819 17  
**तिकड़ा**  
 तीन समुदाय 687 5  
**तिकड़ी**  
 तीन समुदाय 687 5

**तिकतिक**  
 जोत यान चालन 1079 3  
**तिकतिक करना**  
 जोत यान चलाना 1079 18  
**तिकोन**  
 त्रिभुज 969.3  
**तिकोना [तिकोनी]**  
 त्रिभुजाकार 969 13  
**तिकोना आला**  
 तिकोना आला 671.19 ⇨  
**तिकोना बूटा**  
 तिकोना बूटा 578 16 ⇨  
**तिकोनिया**  
 त्रिभुज 969 3  
**तिकोनी टोपी**  
 तिकोनी टोपी 584.10 ⇨  
**तिक्त**  
 चरपरा [चरपरी] 278 12  
 वैमनस्यपूर्ण 706 21  
 बड़ स्वाद सूची 275 3  
**तिक्तता**  
 चरपरपण 278 1  
**तिक्त होना**  
 चरपरा होना 278 11  
**तिक्तानु**  
 नीसादर 87 14  
**तिखंड**  
 तीन खंडीय 938 54  
**तिखंडा**  
 तिखंडा भवन 602 23  
**तिखंडा [तिखंडी]**  
 तीन खंडीय 938 54  
**तिखंडा भवन**  
 तिखंडा भवन 602 23 ⇨  
**तिखंडीय**  
 त्रिखंडीय 612 11  
**तिखटी**  
 तिपाई 595 41  
**तिखना**  
 तिखना 611.14 ⇨  
**तिखना [तिखनी]**  
 तीन खंडीय 938 54  
 त्रिखंडीय 612 11  
**तिखूँट**  
 त्रिभुजाकार 969 13  
**तिखूँटा [तिखूँटी]**  
 त्रिभुजाकार 969 13  
**तिगड़डा**  
 तीन. समुदाय 687 5  
**तिगड़डी**  
 तीन समुदाय 687.5  
**तिगना [तिगनी]**  
 तिगना 949 44  
**तिगुना**  
 तिगुना 949.44 ⇨  
**तिगुना [तिगुनी]**  
 तिगुना 949 44

**तिगुनी मात्रा**  
 प्लुत मात्रा 410 17  
**तिगम**  
 चरपरा [चरपरी] 278.12  
 तप्तक 104 23  
**तिगमता**  
 तीक्ष्णता 270 6  
**तिजहरिया**  
 अपराहन 47 11  
**तिजहरी**  
 अपराहन 47 11  
**तिजारत**  
 व्यापार 657 1  
**तिजारती**  
 व्यापारीय 657 18  
**तिजारती हवा**  
 समुद्र समीर 85.18  
**तिजोरी**  
 तिजोरी 630.6 ⇨  
**तिजोरी**  
 तिजोरी 630 6  
**तिजी करना**  
 घोरी करना 864.44  
**तितंबा**  
 खटराग 747 4  
**तित**  
 उधर 30 8  
**तितना [तिनी]**  
 उतना [उतनी] 946 13  
**तितर बितर**  
 क्रमहीन 992 5  
 पलायित 916 19  
**बिखरा [बिखरी]** 668 25  
**तितली**  
 कीट सूची 122 12  
 तितली 122 28 ⇨  
 व्यभिचारिणी 806.11  
 शृंगार प्रेमी (स्त्री) 222 6  
**तितली: प्युपा**  
 तितली. प्युपा 242.5 ⇨  
**तितिक्ष**  
 ऋषि मुनि सूची 789.17  
**तितिक्षा**  
 क्षमा 872 1  
 तितिक्षा 774 40 ⇨  
 सहिष्णुता 872.4  
**तितिधु**  
 सहिष्णु 872 16  
**तितिम्मा**  
 परिशिष्ट 447 10  
 पूरक अंश 939 8  
**तितेक**  
 उतना [उतनी] 946 13  
**तितो**  
 उतना [उतनी] 946.13  
**तित्तलिका**  
 तितली 122.28

**तितिर**  
 तीतर 126.43  
**तितिरि**  
 ऋषि मुनि सूची 789 17  
 तीतर 126.43  
**तिथ**  
 तिथि 44 2  
**तिथि**  
 अंतिम दिन 39.4  
 तारीख 44 1  
 तिथि 44 2 ⇨  
 पंचांग: अंग सूची 41.2  
 पुण्य दिवस 58 3  
**तिथिकी**  
 पंचांग शास्त्र 41.6  
**तिथि क्रम**  
 काल क्रम 991.8  
**तिथि क्रमिक**  
 काल क्रमिक 991 24  
**तिथि क्षय**  
 तिथि क्षय 44.4 ⇨  
**तिथि निर्णायक**  
 पंचांग शास्त्री 41 7  
**तिथि निर्धारक**  
 पंचांग शास्त्री 41 7  
**तिथिपत्र**  
 कैलंडर 41 4  
 पंचांग 41 1  
**तिथि वृद्धि**  
 तिथि वृद्धि 44.3 ⇨  
**तिदरा**  
 बरामदा 615 6  
**तिधर**  
 उधर 30 8  
 उस पार 998 7  
 वहाँ 30 7  
**तिन**  
 उन 316.16  
 वह 316.14  
**तिनक**  
 चिड़चिड़ाहट 373 7  
**तिनका**  
 घास 11 6  
 तिनका 938.23 ⇨  
**तिनका तोकना**  
 परित्याग करना 1003.3  
 वारफेर करना 710.19  
**तिनका बीतों में पकड़ना**  
 दया याचना करना 834.10  
**तिनके चुनना**  
 पागल होना 354.21  
**तिन को**  
 उन्हें 316.35  
**तिनै**  
 उन्हें 316.35  
**तिनी**  
 धान सूची 187.12

**तिन्ह**  
उन 316 16  
**तिन्हें**  
उन्हें 316 35  
**तिपतवारी**  
नौका सूची 1072 3  
**तिपहर**  
अपराहन 47 11  
**तिपहरिया**  
अपराहन 47 11  
**तिपहरी**  
अपराहन 47 11  
**तिपहला [तिपहली]**  
त्रिपाश्वीय 997 14  
**तिपहलू**  
त्रिपाश्वीय 997 14  
**तिपाहिया गाड़ी**  
त्रिचक्र यान 1070 4  
**तिपाई**  
टी टेबल 595 34  
*तिपाई 595 41 ⇨*  
**तिब**  
हकीमी 172 10  
**तिबारा**  
तीसरी बार में 73 11  
**तिब्बत**  
*तिब्बत 27 7 ⇨*  
**तिब्बत (चीन स्वायत्त राज्य)**  
भारत उपमहाद्वीप देश क्षेत्र सूची 27 6  
**तिब्बत का पठार**  
भारत उपमहाद्वीप: पर्वत सूची 17.1  
**तिब्बत: राजधानी**  
*तिब्बत राजधानी 27 8 ⇨*  
**तिब्बत से श्रीलंका तक क्षेत्र**  
भारत उपमहाद्वीप 27 5  
**तिब्बती**  
*तिब्बती 27 25 ⇨*  
**तिब्बती धर्म गुरु**  
लामा 744 41  
**तिर्मिजिला [तिर्मिजिली]**  
त्रिखंडीय 612 11  
**तिमहला**  
तिखड़ा भवन 802 23  
**तिमाही**  
त्रैमासिक 71 20  
**तिर्मिगिल**  
खेल 124 8  
**तिमि**  
धिसे 514 24  
खेल 124.8  
**तिमिक**  
सील 124.9  
**तिमिर**  
अंधकार 286.1  
**तिमिर चित्र**  
छायाकृति 405.2  
**तिमुठाना**  
दोराहा 1064.4

**तिय**  
तीन 948 21  
स्त्री 236.3  
**तिया**  
तीन 948 21  
पत्नी 803 6  
स्त्री 236 3  
**तिरंगा [तिरंगी]**  
*तिरंगा [तिरंगी] 289 73 ⇨*  
**तिरंगा झंडा**  
भारत राष्ट्र ध्वजा 408 7  
**तिरंगापन**  
बहुरंगीयता 289 22  
**तिरछा [तिरछी]**  
कूट 823 12  
कोणयुक्त 970 12  
वक्र 974 16  
**तिरछापन**  
अवनमितता 1025 4  
वक्रता 974 1  
**तिरछा होना**  
अवनमित होना 1025 6  
**तिरछी काट**  
आड़ी काट 543 3  
**तिरछी गति**  
वक्र गति 1098 9  
**तिरछी चितवन**  
*तिरछी चितवन 284 6 ⇨*  
**तिरछी चितवन वाला**  
वामनयन 158 24  
**तिरछी चितवन से देखना:**  
*तिरछी चितवन से देखना 284 36 ⇨*  
**तिरछी नज़र**  
तिरछी चितवन 284 6  
**तिरछी रेखा**  
अवनत रेखा 968 24  
**तिरछे**  
पार्श्व की ओर 997 23  
वक्रतः 974 24  
**तिरपाल**  
*तिरपाल 580 25 ⇨*  
वस्त्र सायन 615 4  
**तिरमिराहट**  
चकाचीध 287 24  
**तिरस्करण**  
अपमानन 855 2  
**तिरस्कृता**  
अपमान कर्ता 855 13  
**तिरस्कार**  
अपमान 855 1  
घृणा 370.2  
**तिरस्कृत्य**  
अपमान्य 855 12  
**तिरस्कृत**  
अपमानित 855 11  
रहीकृत 526.17  
**तिराना**  
जलावतारण करना 1080 37

पार उतारना 1097 11  
**तिरास्ता**  
दोराहा 1064.4  
**तिराहा**  
दोराहा 1064 4  
**तिरिया बरितार**  
स्त्री नाज़ नख़रा 860 2  
**तिरीटक**  
लोभ 14 24  
**तिरुअनंतपुरम**  
केरल राजधानी 28 22  
**तिरुपति**  
तिरुपति अवतार 769 10  
विष्णु मूर्ति सूची 746 7  
**तिरुपति अवतार**  
*तिरुपति अवतार 769 10 ⇨*  
**तिरैदा**  
तैरता पीपा 1072 18  
बसी तरड 252 20  
**तिरेसठ (83)**  
अभिमुख 1023 9  
**तिरैदा**  
तैरता पीपा 1072 18  
**तिरोधान**  
विलोप 824 7  
**तिरोधायक**  
विलोपक 824 25  
**तिरोभाव**  
नाश 531 1  
विलोप 824 7  
**तिरोभूत**  
विलुप्त 824 24  
**तिरोहित**  
विलुप्त 824 24  
**तिर्यक**  
अवनमित 1025 8  
कोणयुक्त 970 12  
वक्र 974 16  
**तिर्यकता**  
अवनमितता 1025 4  
वक्रता 974 1  
विकर्णता 1026.5  
**तिर्यक पालन**  
आसवन 82 1  
मद्य आसवन 82 2  
**तिर्यक प्रमाण**  
घोड़ाई 965 4  
**तिर्यगता**  
अवनमितता 1025 4  
**तिर्यग्रेखा**  
अवनत रेखा 968 24  
**तिल**  
कोर्निया 141.8  
*तिल 196.17 ⇨*  
तिहलन सूची 196 14  
त्वचा तिल 165 9  
दाहिना फुफ़फ़ुस 146.3

**तिलक**  
उत्तमता: उपमान सूची 313 4  
टीका 800 18  
डीला जनाना कुरता 585.36  
*तिलक 225.19 ⇨*  
धर्म चिह्न 407 7  
माथा: बिंदी 225.13  
रस्म पगड़ी 253.8  
वर रोक 800 45  
वाग्दान 800 47  
सम्मान तिलक 857.20  
**तिलक आलेखन**  
चीसठ कला सूची 397 4  
**तिलक कामोद**  
राग रागिनी सूची 457 24  
**तिलक दूज**  
भाई दूज 57 17  
**तिलक धारण**  
सोलह सिंगार सूची 222 3  
**तिलकाधिकारी**  
युवराज 882 22  
**तिलकामिषेक**  
राज तिलक 899.16  
**तिलकूट**  
*तिलकूट 203 14 ⇨*  
**तिल गज़क**  
गज़क 203.6  
**तिलगी**  
धिगारी 106.11  
**तिलबटा**  
काकरोध 122 14  
कीट सूची 122.12  
**तिल चौबरी**  
तिल चावली 798 11  
**तिल चावली**  
*तिल चावली 798 11 ⇨*  
**तिल चौथ**  
सकट चौथ 57.28  
**तिलची**  
अलबेट 975 10  
तीन लड़ी माला 228 42  
**तिल तंडुल मिश्रण**  
*तिल तंडुल मिश्रण 1008.2 ⇨*  
**तिल तिल**  
अल्पत 942 23  
**तिलवानी**  
दर्जी: धैली 673 15  
**तिल धारण**  
सोलह सिंगार सूची 222.3  
**तिलबुग्गा**  
*तिलबुग्गा 203.15 ⇨*  
**तिल भर**  
अत्यल्पतः 942.24  
पुट मात्र 1008 25  
**तिलबुग्गा**  
तिलबुग्गा 203.15  
**तिलभोग**  
तिलबुग्गा 203.15

## तिलमिलाता [तिलमिलाती]

तिलमिलाता [तिलमिलाती]  
 तरुपता [तरुपती] 392 30  
 तिलमिलाना  
 कुलबुलाना 392 17  
 तरुपना 392 20  
 परघाताप होना 380 9  
 तिलमिलाहट  
 कुलबुलाहट 392.2  
 तरुपकाहट 392.14  
 परघाताप 380 4  
 तिलमिली  
 कुलबुलाहट 392.2  
 तिल शकरी  
 गजक 203 6  
 तिल शकरी  
 तिलकुट 203 14  
 तिलहन  
 तिलहन 196.13 ⇨  
 परघून सूची 186 9  
 तिलांजलि देना  
 परित्याग करना 1003.3  
 तिलिस्म  
 जादू 474 2  
 तिलिस्म 474.13 ⇨  
 तिलिस्मगर  
 तिलिस्मगर 474 14 ⇨  
 तिलिस्मबंद  
 जादूकृत 474.37  
 तिलिस्माती  
 जादुई 474.36  
 तिलिस्वी  
 जादुई 474 36  
 तिलिस्वी 474 38 ⇨  
 तिली  
 तिल 196 17  
 तिलोत्तमा  
 अप्सरा सूची 782 3  
 तिलोत्तमा (पूर्वजन्म)  
 उषा 783 22  
 तिल्लन (भरत नाट्यम)  
 पद संचालन 462 24  
 तिल्ला  
 सलमा सितारा काम 577 18  
 तिल्ली  
 प्लीहा 132.16  
 तिहाना  
 कटाक्ष 844 3  
 तिष्ठ  
 आसीन 1028 10  
 तिष्ठबुगु  
 दोहन काल 554 8  
 तिष्ठन  
 आसन ग्रहण 1028 1  
 तिष्ठा  
 आसन ग्रहण 1028 1  
 तिष्ठापक  
 आधारण कर्ता 1019 19  
 स्थित कर्ता 1020.9

तिष्ठापन  
 आधारण 1019 5  
 तिष्ठित  
 आसीन 1028 10  
 स्थित 1020.8  
 तिष्ठितता  
 आसीनता 1028.3  
 तिष्ठित होना  
 बैठना 1028 8  
 तिथ्य  
 कलियुग 40 15  
 कल्याणकारी 710 21  
 पीष 43 16  
 सीमाग्यशाली, 260 33  
 तिस्र  
 वह 316.14  
 तिस्र पर  
 उस के उपरांत 39.20  
 तदापि 507 15  
 तिस्र पर भी  
 तब भी 36 30  
 तिस्ररंत  
 अपक्षघर 887 9  
 बिचौलिया 877 10  
 विवाचक पंच 877 7  
 तिहरा [तिहरी]  
 तिगुना 949 44  
 तिहरी  
 दही घड़ा 679 10  
 तिहलन सूची  
 तिहलन सूची 196 14 ⇨  
 तिहवारी  
 वार्षिक पारिश्रमिक 643 9  
 तिहाई  
 तिहाई 949.38 ⇨  
 फसल 547 1  
 तिहाई भाग  
 तृतीयांश 949 19  
 तिहार  
 तुम्हारा [तुम्हारी] 316 24  
 तिहारा [तिहारी]  
 तुम्हारा [तुम्हारी] 316 24  
 तेरा [तेरी] 316 25  
 तिहारो  
 तुम्हारा [तुम्हारी] 316.24  
 तेरा [तेरी] 316.25  
 तिहूँ  
 तीनो 948.89  
 तिहेजबी  
 तीन बार विवाहित 799 71  
 तिहेजिया  
 तीन बार विवाहित 799 71  
 तिहेजू  
 तीन बार विवाहित 799.71  
 तिहैया  
 तिहाई 949.38  
 तृतीयांश 949 19

ती  
 पत्नी 803.6  
 तीअल  
 उपहार परिधान सूची 583 23  
 तीक्ष्ण  
 अति क्रुद्ध 373 30  
 कठोर व्यवहारी 831.11  
 कर्तनक्षम 543 15  
 घरपरा [घरपरी] 278 12  
 चुमनशील 270.18  
 तप्तक 104.23  
 तीक्ष्ण 270 19 ⇨  
 तीक्ष्णधी 301 33  
 तीक्ष्ण स्वभावी 838 9  
 तीव्र घटानयुक्त 988 12  
 प्रबल 487 24  
 श्रुतिकटु 294 26  
 हृदय भंजक 391 34  
 तीक्ष्णक  
 तीक्ष्ण कर्ता 270 20  
 तीक्ष्ण करना  
 तीक्ष्ण करना 270 15 ⇨  
 तीक्ष्ण कर्ता  
 तीक्ष्ण कर्ता 270 20 ⇨  
 तीक्ष्ण कांता  
 उग्रतारा 774 12  
 तीक्ष्ण कोण  
 न्यून कोण 970 6  
 तीक्ष्णगंध  
 सहजन 13 24  
 तीक्ष्णगंधा  
 छोटी इलायची 281 9  
 तीक्ष्णता  
 घरपरापन 278 1  
 तीक्ष्णता 270 6 ⇨  
 तीक्ष्णताप  
 शिव 767.1  
 तीक्ष्ण तैल  
 राल 290 25  
 तीक्ष्ण दृष्टि  
 तीक्ष्ण दृष्टि 282.2 ⇨  
 तीक्ष्णधी  
 तीक्ष्णधी 301 33 ⇨  
 तीक्ष्ण बोध क्षमता  
 तीक्ष्ण बोध क्षमता 301.13 ⇨  
 तीक्ष्णरस  
 शोरा 87 16  
 तीक्ष्णसार  
 लोहा 93 7  
 तीक्ष्ण स्वभाव  
 तीक्ष्ण स्वभाव 838.2 ⇨  
 तीक्ष्ण स्वभावी  
 तीक्ष्ण स्वभावी 838.9 ⇨  
 तीक्ष्णांशु  
 सूर्य 8.1  
 तीक्ष्णायस  
 इस्पात 93 11

तीखा [तीखी]  
 घरपरा [घरपरी] 278 12  
 चुमनशील 270.18  
 तीक्ष्ण 270 19  
 तीव्र घटानयुक्त 988 12  
 प्रबल 487 24  
 हृदय भंजक 391 34  
 तीखा छोरे  
 धार 270 7  
 तीखापन  
 घरपरापन 278.1  
 तीक्ष्णता 270.8  
 तीखा मोड़  
 तीखा मोड़ 974 11 ⇨  
 तीखी नजर  
 पर्यवेक्षण 284.21  
 तीखी बात  
 कटाक्ष 844 3  
 तीखे नाकूनहवा  
 सुंदर मुखाकृति 158 2  
 तीज  
 झूला तीज 57 8  
 तृतीया 44 9  
 तीज त्योहार  
 उत्सव 56 1  
 तीजा [तीजी]  
 तीसरा [तीसरी] 948 88  
 तीर्ज  
 तृतीय्या 44 9  
 तीजों  
 झूला तीज 57.8  
 तीजो  
 तृतीया 44 9  
 तीतर  
 तीतर 126.43 ⇨  
 तीता [तीती]  
 घरपरा [घरपरी] 278 12  
 तीतापन  
 घरपरापन 278 1  
 तीन  
 तीन 948.21 ⇨  
 तीन आयाम  
 तीन आयाम 964.9 ⇨  
 तीन आयाम वाला  
 त्रिआयामीय 964 24  
 तीन आयाम सूची  
 तीन आयाम सूची 964.10 ⇨  
 तीन आयामी आकृति  
 पिंड 976.1  
 तीन उच्च वर्ण  
 द्विज 731.7  
 तीन: उपमान सूची  
 तीन: उपमान सूची 948 22 ⇨  
 तीन काल  
 त्रिकाल 36.9  
 तीन कृष्ण सूची  
 तीन कृष्ण सूची 771.2 ⇨



**तीन खंडा**  
तीन खंडीय 938 54  
**तीन खंडीय**  
तीन खंडीय 938 54 ⇨  
**तीन गंगा सूची**  
तीन गंगा सूची 20 11 ⇨  
**तीन गुना**  
तिगुना 949 44  
**तीन चौथाई**  
पीना 949 35  
**तीनताल**  
तीनताल 458 41 ⇨  
**तीन तेरह**  
क्रमहीन 992 5  
बिखरा [बिखरी] 668 25  
**तीन दुःख**  
दुःख त्रय 391 5  
**तीन देवता**  
त्रिदेव 772 30  
**तीन दो एक शून्य**  
विपरीत गणना 950 2  
**तीन पत्ती**  
फ्लैश 478 14  
**तीन पाँच**  
छल 827 7  
तकरार 708 7  
बकवास 428 7  
बहानेबाजी 495 5  
**तीन बटे चार**  
पीना 949 35  
**तीन बार विवाहित**  
तीन बार विवाहित 799 71 ⇨  
**तीन भाग मे से एक**  
तिहाई 949 38  
**तीन मंजिला [तीन मंजिली]**  
त्रिखंडीय 612 11  
**तीन मैजी**  
मग 791 18  
**तीन लड़ी: माला**  
तीन लड़ी माला 228 42 ⇨  
**तीन लोक**  
तीन लोक 258 3 ⇨  
**तीन लोक: स्वामी**  
तीन लोक स्वामी 258 4 ⇨  
**तीन वर्ण: समाहार**  
वार्षिक गण 452 42  
**तीन वेद**  
तीन वेद 740.25 ⇨  
**तीन वेद सूची**  
तीन वेद सूची 740.26 ⇨  
**तीन सदस्यीय शासक मंडल**  
तीन सदस्यीय शासक मंडल 890.7 ⇨  
**तीन सदाचार**  
त्रिवर्ग 761 20  
**तीन: समुदाय**  
तीन: समुदाय 687.5 ⇨  
**तीन सी साठ बिंदु**  
अंश 960.12

**तीनो**  
तीनो 948 89 ⇨  
**तीनारदारी**  
परिचर्या 651 6  
**तीय**  
पत्नी 803 6  
स्त्री 236 3  
**तीया**  
तीन 948 21  
पत्नी 803 6  
**तीरंदाज़**  
धनुषधारी 930 13  
**तीरंदाज़ी**  
धनुर्विद्या 907 29  
**तीर**  
तट 25 8  
तीर का निशान 29 27  
नदी तट 25 11  
बाण 926 16  
**तीर कमान**  
तीर कमान 480 13 ⇨  
धनुष बाण 926 7  
**तीर का निशान**  
तीर का निशान 29 27 ⇨  
**तीर खाना**  
प्रेम होना 368 12  
**तीरगार**  
आतिशगर 56 10  
**तीर चुभाना**  
कटु भाषण करना 432 8  
**तीर चुक्का**  
अटकल 947 3  
अटकलबाज़ी 947 4  
**तीरथ**  
तीर्थ यात्रा 1089 1  
तीर्थ स्थान 1089 10  
**तीरथ करना**  
तीर्थ यात्रा करना 1089 11  
**तीर निशाने पर बैठना**  
युक्ति लगना 517 8  
**तीर प्रक्षेपण**  
तीर प्रक्षेपण 1052 5 ⇨  
**तीरवर्ती**  
नदी तटवर्ती 25 31  
**तीरा**  
तीरा 585.63 ⇨  
**तीरित**  
पार तरित 1097 16  
**तीर्ण**  
पार तरित 1097 16  
पार तरित 1097 16  
**तीर्थकर**  
तीर्थकर 792 1 ⇨  
सिद्धांतकार 343.17  
**तीर्थकर: सिंहासन**  
तीर्थकर: सिंहासन 595.11 ⇨  
**तीर्थकर सूची**  
तीर्थकर सूची 792.2 ⇨

**तीर्थकरीय**  
तीर्थकरीय 792.7 ⇨  
**तीर्थ**  
उत्स्रोत 21 1  
उपाध्याय 323 12  
गाथ स्थल 984 6  
घाट 25 20  
तीर्थ स्थान 1089 10  
दर्शन शास्त्र 760 1  
नौका घाट 1069.12  
यज्ञ 753 1  
वेद 740 22  
शास्त्र 318 2  
स्नानघाट पैड़ी 613 5  
**तीर्थ अंतर्गृही**  
तीर्थ अंतर्गृही 1089.3 ⇨  
**तीर्थ: आंतरिक स्थल यात्रा**  
तीर्थ अंतर्गृही 1089 3  
**तीर्थकर**  
तीर्थकर 792 1  
सिद्धांतकार 343 17  
**तीर्थ करना**  
तीर्थ यात्रा करना 1089 11  
**तीर्थकाक**  
लोलुप पडा 744 5  
**तीर्थ गमन**  
देव दर्शन 749 37  
**तीर्थदेव**  
शिव 767 1  
**तीर्थ नगर**  
तीर्थ स्थान 1089 10  
**तीर्थ: पंडा**  
पडा 744 4  
**तीर्थ परिक्रमा**  
तीर्थ परिक्रमा 1089 4 ⇨  
**तीर्थ यात्रा**  
तीर्थ यात्रा 1089 1 ⇨  
**तीर्थ यात्रा करना**  
तीर्थ यात्रा करना 1089 11 ⇨  
**तीर्थ यात्री**  
तीर्थ यात्री 1089 2 ⇨  
शुनार्थी 749 38  
**तीर्थराज**  
गंगा-यमुना सगम 20 13  
**तीर्थव्यास**  
लोलुप पडा 744 5  
**तीर्थ शिला**  
स्नानघाट पैड़ी 613 5  
**तीर्थसेवी**  
बंगला 126 54  
**तीर्थ स्थान**  
तीर्थ स्थान 1089 10 ⇨  
**तीर्थ स्नान**  
तीर्थ स्नान 221.10 ⇨  
**तीर्थटाक**  
तीर्थ यात्री 1089 2  
**तीर्थटाटन**  
तीर्थ यात्रा 1089 1

**तीर्थटाटन करना**  
तीर्थ यात्रा करना 1089.11  
**तीर्थिक**  
तीर्थ यात्री 1089.2  
पडा 744 4  
**तीर्थोपजीवी**  
पडा 744.4  
**तीली**  
अरा 1077 7  
खपची 597 15  
माधिस 107.7  
शलाका 597 16  
**तीव्र**  
अति उष्ण 104.20  
तीक्ष्ण स्वभावी 838.9  
दुत 1044 6  
प्रबल 487 24  
शीघ्रकारी 496.9  
**तीव्र अनुभूति**  
तीव्र अनुभूति 263.2 ⇨  
**तीव्र इच्छा**  
लालसा 359 5  
**तीव्र गति**  
दुत गति 458 8  
**तीव्र गमन**  
दुत गमन 1044 3  
**तीव्रगामी [तीव्रगामिनी]**  
दुतगामी [दुतगामिनी] 1044 7  
**तीव्रगामी नदी**  
तीव्र नदी 20 6  
**तीव्र चक्रानयुक्त**  
तीव्र चक्रानयुक्त 988 12 ⇨  
**तीव्र जल प्रवाह**  
तीव्र जल प्रवाह 21 10 ⇨  
**तीव्रता:**  
शीघ्रता 496 13  
**तीव्रता**  
तीव्र अनुभूति 263 2  
दुतता 1044 1  
प्रबलता 487 6  
रोग तीव्रता 163.10  
शीघ्रता 496 1  
**तीव्र दृष्टि**  
पर्यवेक्षण 284 21  
**तीव्रन**  
वेग वर्धन 1043 6  
**तीव्र नदी**  
तीव्र नदी 20 6 ⇨  
**तीव्र पलायन**  
तीव्र पलायन 916.4 ⇨  
**तीव्र पलायन करना**  
तीव्र पलायन करना 918.13 ⇨  
**तीव्र पलायित**  
तीव्र पलायित 916.22 ⇨  
**तीव्र प्रकाश**  
तीव्र प्रकाश 287.2 ⇨  
**तीव्र प्रतीक्षा**  
आतुर प्रतीक्षा 1067.2

## तीव्रबंध

तीव्रबंध	तीसरे दिन	दूँगा 461.57	रिक्त 1005 7
तमोगुण 762 6	एकातरा 71.15	दोहन पात्र 554 7	<b>तुच्छ उपहार</b>
<b>तीव्रबुद्धि</b>	<b>तीसवीं</b>	<b>तुंबी</b>	<b>तुच्छ उपहार 640 3 ⇨</b>
तीक्ष्णधी 301.33	तीसवीं 948.100 ⇨	धिया 189 19	<b>तुच्छता</b>
तीव्र मनोव्यथा	<b>तीसवीं [तीसवीं]</b>	तूँबा 461 57	अधमता 840 1
तीव्र मनोव्यथा 391.8 ⇨	तीसवीं 948 100	<b>तुंगुरु</b>	नगण्यता 853 3
<b>तीव्र मिलन अभिलाषा</b>	तीस सावन दिन: मास	गधर्व सूची 778 5	<b>तुच्छ भेंट</b>
तीव्र मिलन अभिलाषा 1057 4 ⇨	कर्म मास 43 21	तुंगुरु 778 7 ⇨	तुच्छ उपहार 640 3
<b>तीव्र लहर</b>	<b>तीसरी</b>	धनिया 281 21	<b>तुच्छ सैनिक</b>
तीव्र लहर 1040 21 ⇨	अलसी 196.15	<b>तुअर</b>	भाड़ा सैनिक 934 5
<b>तीव्र वर्षा</b>	<b>तीसों दिन</b>	अरहर 188 8	<b>तुच्छाति तुच्छ</b>
तीव्र वर्षा 54.11 ⇨	प्रति दिन 1049.20	<b>तुक</b>	निकृष्टतम 314 7
<b>तीव्र यात</b>	<b>तुंग</b>	तुक 452 49 ⇨	<b>तुच्छार्थक शब्द</b>
तीव्र यात	उच्च 982 7	सगतता 438 1	ऊनार्थक शब्द 426 18
आँधी 85 5	नारियल 13 11	सामजस्य 702 1	<b>तुलुक</b>
<b>तीव्र वेग</b>	पर्वत 16.3	<b>तुक क्रम</b>	आत्मकथा 450 21
दृढ गति 1044 2	प्रबल 487 24	अकारांत क्रम 991 6	सविधान 878 16
<b>तीव्र व्यथा</b>	सिंहासन 595 9	<b>तुक पूर्णता</b>	<b>तुभ्र</b>
तीव्र मनोव्यथा 391 8	<b>तुंगता</b>	तुकातता 452 50	तू 316 18
<b>तीव्र झोना</b>	उच्चता 982 1	<b>तुक बंदी</b>	<b>तुभ्र का</b>
वेग बढ़ना 1043 10	<b>तुंगबीज</b>	काव्यहीन कविता 451 17	तुभ्रे 316 37
<b>तीव्रा</b>	पारा 94 9	<b>तुक बद्ध</b>	<b>तुभ्रे</b>
तीव्र नदी 20 6	<b>तुंगिमा</b>	तुकात 452 57	तुभ्रे 316 37 ⇨
तुलसी 13 9	उच्चता 982 1	<b>तुक बाज़</b>	<b>तुका [तुकी]</b>
<b>तीव्रानंद</b>	<b>तुंगीरा</b>	घटिया कवि 448.16	कुटा [कुटी] 540 16
शिव 767 1	चंद्रमा 8 2	तुक बाज़ 452 51 ⇨	भजित 539 12
<b>तीव्रानुभूति</b>	<b>तुंज</b>	<b>तुकमा</b>	विभाजित 699 16
तीव्र अनुभूति 263 2	आक्रमण 914 3	फदा 572 8	<b>तुकाई</b>
<b>तीव्रित</b>	इंद्र वज्र 928 8	<b>तुक युक्त</b>	कुटाई 540 2
वेग वर्धित 1043 17	<b>तुंज</b>	तुकात 452 57	भजन 539 1
<b>तीव्रान्नाद</b>	घोष 143 5	<b>तुक हीन</b>	<b>तुका मुञ्जा [तुकी मुञ्जी]</b>
तीव्रान्नाद 354 8 ⇨	ध्यान 143 6	अतुकात 452 58	तुका मुञ्जा [तुकी मुञ्जी] 975 31 ⇨
<b>तीस</b>	नल. टोटी 19.28	<b>तुकांत</b>	<b>तुलई</b>
तीस 948.59 ⇨	मुख विवर 143 1	तुकात 452.57 ⇨	तुलई 684 5 ⇨
<b>तीसमार स्त्री</b>	सूँक 142 7	<b>तुकांतता</b>	<b>तुललाहट</b>
डींगबाज़ 842.15	<b>तुंजिका</b>	तुकातता 452.50 ⇨	तुललाहट 299.16 ⇨
<b>तीसरा</b>	घोष 143 5	<b>तुकका</b>	<b>तुदन</b>
तीसरा [तीसरी] 948.88	नाभि 148.3	तुक बाज़ 452 51	अतर्वेधन 271 1
<b>तीसरा [तीसरी]</b>	<b>तुंजी</b>	<b>तुकका</b>	<b>तुन</b>
एकांतर संख्यक 949.28	नदी 767 14	अटकल 947 3	काष्ठ सूची 597 2
तीसरा [तीसरी] 948.88 ⇨	<b>तुंगु कीट</b>	काव्यहीन कविता 451 17	<b>तुनक</b>
तृतीय स्थानीय 707.13	मकड़ी 122.36	सयोग 69 1	चिड़चिड़ाहट 373 7
<b>तीसरा आदमी</b>	<b>तुंग</b>	<b>तुकका भिड़ाना</b>	पुट मात्र 1008.25
प्रेम प्रतिद्वंद्वी 368.4	ताँद 148 2	अटकल लगाना 947 16	<b>तुनकना</b>
<b>तीसरा इनाम</b>	द्वतगामी [द्वतगामिनी] 1044 7	<b>तुककेबाज़</b>	चिड़चिड़ाना 373.21
तृतीय पुरस्कार 857 5	<b>तुंगिल</b>	अटकल बाज़ 947.20	झल्लाना 373.24
<b>तीसरा नेत्र</b>	उन्नतोदर 158.29	<b>तुककेबाज़ी</b>	<b>तुनकमिजाज</b>
तीसरा नेत्र 141.2 ⇨	<b>तुंदी</b>	अटकल बाज़ी 947.4	चिड़चिड़ा [चिड़चिड़ी] 373 32
<b>तीसरा पहर</b>	उन्नतोदर 158 29	<b>तुकके से</b>	दुराराध्य 400.22
अपराहण 47 11	<b>तुंदैल</b>	अटकल के सहारे 947 29	<b>तुनुक</b>
दिन. तीसरा पहर 49.5	उन्नतोदर 158.29	<b>तुनुक</b>	भंजनशील 539.14
<b>तीसरा भाग</b>	<b>तुंबर</b>	बीज 112 1	<b>तुनुकमिजाज</b>
तिहाई 949 38	तानपूरा 461 53	<b>तुगलक़ाबाद</b>	दुराराध्य 400.22
<b>तीसरी औरत</b>	<b>तुंबर</b>	दिल्ली 28 42	<b>तुपक</b>
प्रेम प्रतिद्वंद्विनी 368.5	तुंबरु 778.7	<b>तुच्छ</b>	बदरू 927.4
<b>तीसरी बार में</b>	<b>तुंबा</b>	अविचारक 330.23	<b>तुफ़ल</b>
तीसरी बार में 73.11 ⇨	धिया 189.19	नगण्य 853.10	प्रयोजन 508.1
<b>तीसरे</b>	तूँबा 679 35	निकृष्ट 314.5	
तीसरी बार में 73.11			

तुबका  
तूबा 461.57  
तुम  
तुम 316.17 ⇨  
तुमकी  
तूबा 679.35  
तूबा 461.57  
तुमाई  
तुमाई 567.3 ⇨  
तुमाई कर्मी  
तुमाई कर्मी 567.4 ⇨  
तुमुल  
अत्यधिक 944.7  
कोलाहलपूर्ण 294.30  
भयानक 395.25  
तुमुल युद्ध  
भीषण युद्ध 905.7  
तुम्हारा [तुम्हारी]  
तुम्हारा [तुम्हारी] 316.24 ⇨  
तुम्हें  
तुम्हें 316.36 ⇨  
तुरंग  
घोड़ा 127.35  
तुरंग ड्रेविणी  
भैंस 127.19  
तुरंगम  
घोड़ा 127.35  
तुरंगमी  
अश्वारोही 1082.6  
तुरंगवदन  
किन्नर 778.1  
तुरंगी  
अश्वारोही 1082.6  
तुरंज  
घकोतरा 190.18  
बूटा तुरंज 578.17  
तुरंजबीन  
शिकंजबीन 208.7  
तुरंत  
शीघ्रता 496.13  
तुरंतता  
शीघ्रता 496.1  
तुरंत भुगलान  
नरुद क्रय 660.6  
तुराई  
तोरी 189.23  
साग सब्जी सूची 189.4  
तुरग  
असुर सूची 783.8  
तुरगी  
अश्वारोही 1082.6  
नादा घोड़ा 127.36  
तुरपाई  
तुरपाई 577.7  
तुरपाई  
तुरपाई 577.7 ⇨  
तुरबत  
क्रूर 254.18

मजार 255.8  
तुरम  
तुरही 461.55  
तुरमधी  
तुरही वादक 461.56  
तुरसीला [तुरसीली]  
खट्टा [खट्टी] 277.19  
तुरही  
तुरही 461.55 ⇨  
मगल वाद्य सूची 796.12  
तुरही ध्वनि  
तुरही ध्वनि 296.12 ⇨  
तुरही वादक  
तुरही वादक 461.56 ⇨  
तुराई  
आतुरता 496.3  
तुराना  
शीघ्रता करना 496.6  
तुरायण  
अनासक्ति 366.1  
तुरावाह  
इंद्र 773.5  
तुरी  
अश्वारोही 1082.6  
घोड़ा 127.35  
तुरही 461.55  
कुंदना 569.2  
मोती लकी गुच्छा 228.39  
तुरीय  
गतिशील 1042.11  
ब्रह्मलीन अवस्था 277.5  
समकोण 970.2  
तुरुप  
तुरुप 479.19 ⇨  
तुरुप चाल  
तुरुप चाल 478.21 ⇨  
तुरुष्क  
शिलाजीत 84.12  
तुरक मणि  
टर्कोइज 96.11  
तुरकी टोपी  
तुरकी टोपी 584.11 ⇨  
तुरां  
कलगी 140.5  
केश गुच्छ 137.5  
टोप टोपी-तुरां 584.21  
लट 223.15  
तुरां  
अप्रसन्न 381.10  
क्रुद्ध 373.28  
खट्टा [खट्टी] 277.19  
तीक्ष्ण 270.19  
तुरांना  
खट्टा करना 277.18  
तुरां  
खटास 277.1  
रुष्टि 374.2  
वैनस्प 708.10

तुलन पत्र  
बैलेस शीट 632.2  
तुलना  
उपमा 309.7  
उपमा अलंकार 454.4  
तुलना 309.1 ⇨  
समकक्षता 851.1  
तुलना करना  
तुलना करना 309.10 ⇨  
तुलनात्मक  
तुलनात्मक 309.16 ⇨  
तुलनात्मक प्रत्यय सूची  
तुलनात्मक प्रत्यय सूची 309.17 ⇨  
तुलना न होना  
विपरीत होना 310.5  
तुलनापूर्ण  
तुलनात्मक 309.16  
तुलना में  
तुलना में 309.23 ⇨  
तुलनाहीन  
अनुपम 312.17  
तुलनाहीनता  
अनुपमता 312.4  
तुलनीय  
उपमेय 309.9  
तुलनीय 309.15 ⇨  
सदृश्य 309.20  
समकक्ष 851.5  
तुलवाई  
तीलन 962.2  
तुलसी  
तुलसी 13.9 ⇨  
नगर वृक्ष सूची 13.2  
तुलसी चबूतरा  
तुलसी घोंरा 551.24  
तुलसी घोंरा  
तुलसी घोंरा 551.24 ⇨  
तुलसी दास-रचना  
रामचरित मानस 770.15  
तुलसी रामायण  
रामचरित मानस 770.15  
तुलसी वृंदावन  
तुलसी घोंरा 551.24  
तुला  
तराजू 962.9  
तुला परीक्षा 876.4  
तुला [तुली]  
तुला [तुली] 962.65 ⇨  
मात्रा में नियत 946.17  
सन्नद्ध 491.16  
तुलाई  
छोटा लिहाफ़ 593.14  
तीलन 962.2  
तुलाई कर्मी  
तीलने वाला 962.66  
तुलाई छल  
कम तौल 962.3

तुला कूट  
कम तौल 962.3  
तुलाकूट  
कम तौलने वाला 962.4  
तुलाघट  
तराजू पलका 962.23  
तुलादंड  
तराजू डंडा 962.21  
तुला: दंड रस्सी  
तुला: दंड रस्सी 570.12 ⇨  
तुलाधार  
व्यापारी वैश्य 731.26  
तुलाधार  
तराजू पलका डोरी 962.24  
तुला पक्ष  
तराजू पलका 962.23  
तुला परीक्षा  
तुला परीक्षा 876.4 ⇨  
तुला: पलका रस्सी  
तुला पलका रस्सी 570.13 ⇨  
तुला प्रगाह  
तराजू डोरी 962.19  
तुला बीज  
तुला बीज 962.42 ⇨  
तुलामान  
तराजू डंडा 962.21  
बाट 962.27  
तुला मानांतर  
हलके बाट द्वारा तौल 962.8  
तुला यंत्र  
तराजू 962.9  
तुला राशि  
राशि सूची 4.8  
तुला विपुव  
शरद विपुव 5.23  
तुला सूत्र  
तराजू डोरी 962.19  
तुलित  
तुला [तुली] 962.65  
मात्रा में नियत 946.17  
समभार 963.16  
तुल्य  
तुलनीय 309.15  
समकक्ष 851.5  
समभार 963.16  
समाकार 978.4  
समान 309.22  
तुल्य कालीन  
समकालीन 59.3  
तुल्यता  
समकक्षता 851.1  
समभारता 963.7  
सादृश्य 309.3  
तुल्यचरित्र  
पक्षपातहीनता 887.2  
तुल्यदर्शी  
पक्षपातहीन 887.10

## तुल्यनामता

### तुल्यनामता

सहनामता 315.11

### तुल्यनामा

सहनामी 315 18

### तुल्यरूप

समरूप 967.20

### तुल्यरूपता

समरूपता 967.10

### तुल्यलक्षण

सदृश्य 309 20

### तुल्यलक्षणता

सादृश्य 309 3

### तुल्य

दाकी मुँच हीन 136 9

सींगहीन 140.26

### तुल्यरी

फिटकरी 281.25

### तुल्य

अनाज छिलका 116.8

तुल्य 526.5 ⇌

### तुल्यार

अति शीतल 105 20

क्षीण वर्षा 54 9

तुल्यार 90 8 ⇌

हिम वर्षा 54.13

### तुल्यार गिरना

तुल्यार पात होना 90 13

### तुल्यार जल

ओस 90 11

### तुल्यार पात

तुल्यार पात 90.9 ⇌

हताशा 376.2

### तुल्यार पात होना

तुल्यार पात होना 90.13 ⇌

### तुल्यारसु

शीत काल 53.1

### तुल्यार समूह

कोहरा 90 10

### तुल्यारसु

चंद्रमा 8.2

### तुल्याराधात

हिनाधात 284.10

### तुल्याराच्छन्न

कुहरित 90.18

### तुल्याराच्छन्नता

कोहरा 90 10

### तुल्याराच्छन्न होना

कुहरा छाना 90 14

### तुल्याराच्छादित

कुहरित 90 18

### तुल्यारालय

हिमालय 17 7

### तुल्यारामृत

कुहरित 90.18

### तुल्यारि

विष्णु 768 1

### तुल्यारिता

तुल्यारिता 774.41 ⇌

### तुल्य

तुल्य 374.20 ⇌

तुल्य 361 16

प्रसन्न 381 7

### तुल्यतः

तुल्यत 361 19

### तुल्यन

तुल्य प्रदान 361 6

### तुल्यि

चंद्र कला सूची 8.4

तुल्यि 774 42 ⇌

तुल्यि 361 5

मनुहार 374 6

सतोष 360 5

### तुल्यिकरण

तुल्यिकरण 374 7

### तुल्यित

तुल्य 374 20

### तुल्यिकरण

तुल्यिकरण 374.7 ⇌

साम नीति 819.4

### तुल्यिकरण करना

तुल्यिकरण करना 374 14 ⇌

### तुल्यिकरण नीति

तुल्यिकरण नीति 374 8 ⇌

### तुल्यिकृत

तुल्य 374 20

### तुल्य

अनाज छिलका 116 8

तुल्य 526 5

### तुल्यसा

तुल्य 526.5

### तुल्यिन

तुल्यार 90 8

हिम 90 1

### तुल्यिन कण

ओस कण 90 12

### तुल्यिनकर

चंद्रमा 8 2

तुल्यिन पात 90.9

### तुल्यिनांशु

कपूर 274.14

### तुल्यिनाथल

हिमालय 17.7

### तुल्यकी

तुल्य 679 35

### तुल्यबा

तुल्यबा 461.57 ⇌

तुल्यबा 679.35 ⇌

### तुल्यबी

तुल्यबा 461.57

### तुल्य

तुल्य 316 18 ⇌

### तुल्यर

अरहर 188.8

### तुल्य

खर पतवार 548 32

सीक 114.6

### तुल्य

तरकस 926 22

### तुल्यि

श्लोक 452 17

### तुल्यीर

तरकस 926 22

### तुल्य

शहतूत 190 33

### तुल्यी

तुल्यई 684.5

### तुल्य मर्म

तकरार 708 7

### तुल्य

शहतूत 190 33

### तुल्यदा

टीला 16 1

देर 686 6

मुक्तिका बंध 22.4

सीमा चिह्न 1001.15

### तुल्य

लाल वस्त्र 578 22

### तुल्यना

दूना 125 5

### तुल्यफान

कोलाहल 294 8

क्राति विस्फोट 903 8

तुल्यफान 65 8 ⇌

प्रबल आक्रमण 914 7

महा सकट 909.2

समुद्री तुल्यफान 85 9

### तुल्यफान झूला

तुल्यफान झूला 1034.13 ⇌

### तुल्यफान मेल

तुल्यफान झूला 1034 13

### तुल्यफानी

अदम्य 519 28

ऊँची लहरों वाला 1040 33

### तुल्यफानी

ऊँची 294.32

### तुल्यफानी बादल

अज्ञायात मेघ 55 4

### तुल्यफानी वर्षा

आँधी पानी 85.7

### तुल्य

तुल्यमाई 567 3

### तुल्यका

तुल्यबा 679.35

### तुल्यना

गाली देना 433.6

तुल्यना 567.12 ⇌

दोष देखना 843.18

पिटवाई करना 918.23

### तुल्य

तुल्यबा 679.35

### तुल्यार

बतंगड 434.5

शब्दाडंबर 421.28

सविस्तार विवरण 449 11

### तुल्य

अरहर 188 8

### तुल्यरा

वेग 1042 9

### तुल्य

तुल्यही 461.55

ब्रह्मलीन अवस्था 257.5

मृदंग 461 72

### तुल्यनाद

आरंभ संकेत सूची 521 8

तुल्यही ध्वनि 296 12

### तुल्य वादक

तुल्यही वादक 461 56

### तुल्यश्रम

सन्ध्यास आश्रम 233 6

### तुल्य

कपड़ा लबाई 965 3

कोमल पंख 151 4

प्रसार 979 3

रुई 568.5

लंबाई 965 2

लंबाई युक्त 965 10

सविरस्तार विवरण 449 11

### तुल्य अर्ज

लंबाई चौड़ाई 965 1

### तुल्य तबील

बहुत लंबा 154 14

### तुल्य शर्करा

बिनीला 196.18

### तुल्य

कपास 568 4

दीपक बाती 285 17

### तुल्य

तुल्यिका 404 33

### तुल्यिक

चित्रकार 404.25

### तुल्यिका

छोटा लिहाफ़ 593 14

तुल्यिका 404.33 ⇌

रुई गधा 593 45

लेखनी 416.1

### तुल्यी

दीपक बाती 285.17

नील निर्यास 220.24

रुई 568.5

### तुल्यर

दाकी मुँच हीन 136.9

सींगहीन 140.26

### तुल्यरिका

गोपी चंदन 100.14

### तुल्य

डंठलः भूसा 114.5

पशमीना 568.10

### तुल्ययान

बंदूकः कारतूस 927.10

### तुल्य

घास 11.6

तिनका 938.23  
**तृणकेतु**  
 ताड 13 8  
 बॉस 597 8  
**तृणजीवी**  
 तृणाहारी 204 7  
**तृणध्वज**  
 ताड 13 8  
 बॉस 597 8  
**तृण मयूर**  
 चरत 126.37  
**तृणराज**  
 ताड 13 8  
**तृण स्थली**  
 घास मैदान 11 5  
**तृणावर्त**  
 चक्रवात 85 10  
**तृणाहारी**  
 तृणाहारी 204 7 ⇨  
**तृतीय**  
 तीसरा [तीसरी] 948 88  
 तृतीय स्थानीय 707 13  
**तृतीय कारक**  
 करण कारक 425 23  
**तृतीय ताल**  
 तीनताल 458 41  
**तृतीय पुरस्कार**  
 तृतीय पुरस्कार 857 5 ⇨  
**तृतीय प्रकृति**  
 नपुसक 238 18  
**तृतीय स्थानीय**  
 तृतीय स्थानीय 707 13 ⇨  
**तृतीयांश**  
 तिहाई 949 38  
 तृतीयांश 949.19 ⇨  
**तृतीयांशिक**  
 तिहाई 949 38  
**तृतीया**  
 तृतीया 44 9 ⇨  
**तृतीयाश्रम**  
 वानप्रस्थ आश्रम 233 4  
**तृप्त**  
 तृप्त 361.16 ⇨  
 पूर्णच्छ 361 13  
 भरे पेट वाला 182 13  
**तृप्त करना**  
 तृप्त करना 361 12 ⇨  
**तृप्त कर्ता**  
 तृप्त कर्ता 361 18 ⇨  
**तृप्तकाम**  
 पूर्णच्छ 361.13  
**तृप्ततः**  
 तृप्ततः 361.19 ⇨  
**तृप्त न होना**  
 तृप्त न होना 362.4 ⇨  
**तृप्त होना**  
 तृप्त होना 361.11 ⇨

**तृप्ति**  
 तृप्ति 361.5 ⇨  
 भरपेट आहार 182 2  
**तृप्ति न होना**  
 तृप्त न होना 362 4  
**तृप्ति प्रदान**  
 तृप्ति प्रदान 361.6 ⇨  
**तृप्तिवाद**  
 भोगवाद 760 21  
**तृप्त**  
 तर्पण कर्ता 253.42  
**तृष्णा**  
 तृष्णा 180.5 ⇨  
 लालसा 359 5  
 लोभ 359 6  
**तृष्णा कातर**  
 तृष्णा कातर 180 21 ⇨  
**तृष्णा कातर होना**  
 बहुत प्यासा होना 180 13  
**तृष्णालु**  
 तृप्ति 180 19  
 लालसी 359 29  
**तृष्णा शमन**  
 तृष्णा शमन 180 7 ⇨  
**तृष्णा शांत करना**  
 प्यास मिटाना 180.14  
**तृष्णा शांति**  
 जल ग्रहण 88 10  
**तृष्णा शामक**  
 तृष्णा शामक 180 22 ⇨  
**तृष्णाह**  
 जल 88 1  
**तृष्णाहा**  
 सीफ 281 36  
**तृष्णाहीन**  
 अतृप्ति 180 20  
**तृष्णाहीनता**  
 अतृष्णा 180 6  
**तृप्ति**  
 तृप्ति 180 19 ⇨  
 लालसी 359 29  
**तृप्ति होना**  
 प्यासा होना 180 12  
**तृष्णा**  
 काम वासना 237 5  
 तृष्णा 180 5  
 भोग लिप्ता 363 4  
 लालसा 359 5  
**तृष्णाहीन**  
 इन्द्रिय निग्रही 364.13  
**तैं**  
 कृततः 506.33  
**तैंतीस**  
 तैंतीस 948.62  
**तैंदुआ**  
 तैंदुआ 127.54 ⇨  
**तै**  
 वे 316.15

**तैर्बया (जैसे: ज्वर)**  
 एकातरा 71 15  
**तैरा**  
 बक्र तलवार 924 9  
**तैरा बहादुर**  
 सिख गुरु सुधी 794.2  
**तैरो दुबम**  
 दुधारी तलवार 924.8  
**तैज**  
 अंग दीप्ति 157 6  
 अति आवेश 371 2  
**तैज**  
 अदम्य 519 28  
 आलस्यहीन 493 12  
**तैज**  
 उत्साह 491 1  
**तैज**  
 उष्ण 104.18  
 कठोर व्यवहारी 831 11  
 कर्तनक्षम 543 15  
 क्रोधी 373 29  
 गहन प्रभावी 511 19  
**तैज**  
 गौरव 849 4  
**तैज**  
 घटकीला [घटकीली] 289 33  
 चरपरा [घरपरी] 278 12  
 चुभनशील 270 18  
**तैज**  
 ताप 103 1  
 तीक्ष्ण 270 19  
**तैज**  
 तीक्ष्णधी 301 33  
 तीक्ष्ण स्वभावी 838 9  
 तीव्र चक्रानयुक्त 988 12  
**तैज**  
 तेजस्विता 839 5  
 तेजस्वी 839 9  
 दीप्ति 287 16  
**तैज**  
 हुत 1044 6  
**तैज**  
 धार 270 7  
 प्रताप 849 5  
**तैज**  
 प्रबल 487 24  
 प्रभावशाली 511 17  
 बुद्धिमान 301 21  
**तैज**  
 भेजा 140 10  
**तैज**  
 महंगा [महंगी] 664 34  
 युक्ति कर्ता 517 10  
**तैज**  
 रजोगुण 762 7  
 वीर 398.6  
 वीरता 398.1  
 वैभव 226.5

शक्ति 487 1  
**तैज**  
 शक्तिशाली 487.20  
**तैज**  
 शारीरिक बल 160 2  
**तैज**  
 शीघ्रकारी 496 9  
 श्रुतिकटु 294 28  
**तैज**  
 सूक्ष्म शरीर 139.2  
**तैज**  
 स्फूर्त 491 13  
**तैज**  
 स्फूर्ति 491 2  
**तैज करना**  
 तीक्ष्ण करना 270 15  
 वेग बढ़ाना 1043.11  
**तैज गति**  
 हुत गति 1044 2  
**तैज चलना**  
 हुत गमन करना 1044 5  
**तैज झोका**  
 तैज झोका 85.13 ⇨  
**तैजश्रिया**  
 तैजश्रिया 628 16 ⇨  
**तैज तरार**  
 तीक्ष्णधी 301 33  
**तैजवम**  
 उत्साहपूर्ण 491 9  
 उत्साही 491 11  
 स्फूर्त 491 13  
**तैज दीङ्गना**  
 तैज दीङ्गना 484 14 ⇨  
**तैज नज़र**  
 तीक्ष्ण दृष्टि 282 2  
**तैजपात**  
 तैजपात 281.19 ⇨  
**तैजपूर्ण**  
 तेजोमंडित 839 11  
**तैज लहर**  
 तीव्र लहर 1040.21  
**तैजवंत [तैजवंती]**  
 तेजस्वी 839.9  
 प्रतापशाली 849.19  
**तैजवान [तैजवती]**  
 तेजस्वी 839.9  
 प्रतापशाली 849 19  
**तैजस्कर**  
 तीक्ष्ण कर्ता 270.20  
**तैजस्थिता**  
 तैजस्थिता 839.5 ⇨  
 प्रभावशालिता 511.2  
 शक्तिशालिता 487 2  
 स्फूर्ति 491.2  
**तैजस्वी**  
 तेजस्वी 839.9 ⇨  
 दीप्तांग 157.11  
 प्रतापशाली 849.19

## तेजहीन

प्रभावशाली 511.17  
बलिष्ठ 160.10  
शक्तिशाली 487.20  
स्फूर्त 491 13

### तेजहीन

अतेजस्वी 839.10  
आलोकहृत 286 15  
धुंधला [धुंधली] 286 17  
स्फूर्तिहीन 492 14

### तेजहीनता

अतेजस्थिता 839 6  
स्फूर्तिहीनता 492.3

### तेज होना

वेग बढ़ना 1043 10

### तेजाब

अम्ल 87.8

### तेजी

ताप 103 1  
तीक्ष्णता 270 6  
दृढता 1044 1  
धार 270.7  
प्रबलता 487.6  
वेग 1042 9  
व्यापारिक महँगाई 664 14

### तेजी

शीघ्रता 496 1

### तेजी से

शीघ्रतः 496 13

### तेजोमंडल

तेजोमंडल 839.7 ⇨

### तेजोमंडित

तेजोमंडित 839.11 ⇨

### तेजोमय

तेजस्वी 839.9

### तेजोभूति

तेजस्वी 939 9

### तेजोरूप

तेजस्वी 839.9

ब्रह्म 764 24

### तेजश्रिया

तेजश्रिया 628.16

### तेता [तेती]

उतना [उतनी] 946 13

### तेतिक

उतना [उतनी] 946 13

### तेतीस

तैतीस 948.62

### तेन

तोमनोम 458.18

### तेनन

आर्द्रण 88.17  
आहार व्यंजन 199.10  
पक्का खाना 197 4

### तेमनी

अग्नि पात्र 109 1

### तेरस

त्रयोदशी 44 19

### तेरह

तेरह 948.44 ⇨

तेरहः उपमान सूची

तेरहः उपमान सूची 948.45 ⇨

### तेरहवीं

तेरहवीं 253.10 ⇨

मृत्यु भोज सूची 183.11

### तेरहवीं भोज

मृत्यु भोज 183 10

### तेरही

तेरहवीं 253 10

### तेरा [तेरी]

तेरा [तेरी] 316.25 ⇨

### तेरो

तेरा [तेरी] 316 25

### तेल

औइलिंग तेल 538.6  
खनिज तेल 110 16  
खाद्य तेल 196 11  
तेल 196.10 ⇨  
निष्कर्ष प्रकार सूची 84 2  
वनस्पतीय वसा 132 6  
स्निग्ध्य सूची 196 2

### तेल इंजन

तेल इंजन 1078.7 ⇨

### तेल कोल्हू

तेल कोल्हू 83 8 ⇨

### तेल गाड़ी

तरल भार यान 1071 4

### तेल घड़ा

तेल घड़ा 679 9 ⇨

### तेल डलाई

औइलिंग 538.5

### तेलः तलछट

तेलः तलछट 526.8 ⇨

### तेल निष्कर्षण

तेल निष्कर्षण 83.2 ⇨

### तेलः परिपाचन

तलाई 195 32

### तेल पेशाई

तेल निष्कर्षण 83 2

### तेल मीन

कोड 125 4

### तेलईका

तेल घड़ा 679.9

### तेलईकी

तेल घड़ा 679 9

### तेलहन

तिलहन 196.13

### तेली [तेलिन]

तेली [तेलिन] 83.9 ⇨

### तेलुगु

भारत राष्ट्रभाषा सूची 421 4

### तेलुगु देश

आंध्र प्रदेश 28.13

### तेवन

क्रीडा उपवन 12.14

### तेवर

धू 141 11

### तेवर दिखाना

त्योरी घड़ाना 284 39

### तेवर बदलना

त्योरी घड़ाना 284.39

### तेवरा

पोखरा 18.9

### तेवरी

त्योरी 284 10

### तेवहार

उत्सव 56 1

### तेहरा [तेहरी]

तिगुना 949.44

### तैं

तू 316 18

### तैतीस

तैतीस 948 62 ⇨

### तैतीस

देवता 772 1

देवता संख्या 772.29

### तैतीसः उपमान सूची

तैतीसः उपमान सूची 948 63 ⇨

### तैतीस देवता

तैतीस देवता 772 34 ⇨

### तैतीस देवता सूची

तैतीस देवता सूची 772.35 ⇨

### तैतीस करीब

देवता संख्या 772 29

### तै करना

पार जाना 1097 9

### तैजस

तेजस्थिता 839 5

रजोगुणी 762 15

### तैतिर

तीतर 126 43

### तैतिरीय उपनिषद

उपनिषद सूची 740 13

### तैना

द्रवित होना 80.4

### तैनात

नियुक्त 653 32

युद्ध सभ्रद्ध 907 43

सभ्रद्ध 491 16

### तैनाती

पद नियुक्ति 653 6

युद्ध सभ्रद्धता 907 5

सभ्रद्धता 491 4

### तैयार

अभ्यस्त 303.19

उद्यत 491.15

नारंगी बत्ती 1067.16

पक्व 195.77

पक्व (वनस्पति) 118.19

परिपाचित 195.65

पूर्ण रचित 527.16

प्रतिरोधी 915.11

मरम्मत कृत 538.8

युद्ध सभ्रद्ध 907.43

शस्त्रीकृत 907.45

सभ्रद्ध 491 16

समाप्त (कार्य) 522 4

सहमत 337 19

### तैयार करना

शृंगार कर्म करना 222.15

### तैयार माल

उत्पाद 546 1

### तैयार होना

वनस्पति पकना 118 13

शृंगार करना 222 14

सजना 226 10

सभ्रद्ध होना 491 8

### तैयारी

अभ्यास 303 5

उद्यतता 491 3

उपक्रम 521 4

युद्ध सभ्रद्धता 907.5

सजधज 226.6

स्वर साधन 460 9

### तैयारी से

सभ्रद्धत 491 20

### तैर

तरण 483 20

### तैरता काठ

बंसी तरंड 252 20

### तैरता पीपा

तैरता पीपा 1072.18 ⇨

### तैरता पुल

तैरता पुल 1065 12 ⇨

### तैरता होटल

यात्री पोत 1072.41

### तैरना

ग्लाइडिंग करना 1081 46

तैरना 483.25 ⇨

पार तरना 1097 10

### तैरने वाला

तैराक 483 2

### तैराक

तैराक 483.2 ⇨

### तैराकी

तरण 483 20

तैराकी 483 1 ⇨

### तैराकी कूद

डाइविंग 483 12

### तैराकीः स्ट्रोक

तैराकीः स्ट्रोक 483 3 ⇨

### तैराना

जलावतारण करना 1080.37

### तैराया [तैराई]

जलावतरित 1080.43

### तैर्यंकर

तीर्थंकराय 792 7

### तैर्यिक

संन्यासी 790.11

सिद्धांतकार 343.17

तैलंगाना  
आंध्र प्रदेश 28.13  
तैलकार  
तेली [तेलिन] 83.9  
तैल किट्ट  
तेल तलछट 526.8  
तैल पर्णिका  
तारपीन 290.24  
तैलपर्णी  
गंध धूप 274.17  
घदन 274.20  
तैल फल  
तिल 196.17  
तैल बिंदु  
व्याख्या 427.15  
तैल यंत्र  
तेल कोल्हू 83.8  
तैल रंग  
तेल रंग 290.6 ⇌  
तैलाख्य  
शिलाजीत 84.12  
तैलिक  
तेली [तेलिन] 83.9  
तैश  
आवेश 371.1  
क्रोध 373.1  
तीव्रोन्माद 354.8  
तैश खाना  
कुद्द होना 373.15  
तैशातीची  
तकरार 708.7  
तैसा [तेसी]  
वैसा 317.31  
तैसे  
वैसे 514.24  
तौद  
उभरा उदर 158.6  
तौद 148.2 ⇌  
तौबल  
उन्नतोदर 158.29  
तौबीला [तौबीली]  
उन्नतोदर 158.29  
तौदू  
उन्नतोदर 158.29  
तौ  
तौ 507.13 ⇌  
तौखना  
तुष्टीकरण करना 374.14  
तौटका  
टोना टोटका 759.1  
तौड  
तौड जल प्रवाह 21.10  
नाश 531.1  
निवारण 920.4  
पनीर जल 193.15  
पंतरा तौड 486.21  
प्रतिरक्षा 908.2  
प्रवाह 1041.1

मंत्र नाशन 758.8  
संकट मोचक युक्ति 910.2  
तौडक  
भजक 539.15  
तौडक फोडक  
तौडफोड कर्ता 539.19  
तौडजोड  
युक्ति 517.1  
तौडना  
अंग विरूपण करना 153.12  
कटीती करना 664.27  
कूटना 540.9  
तौडना मरोडना 975.23  
नष्ट करना 531.5  
नियम भंग करना 879.16  
बारूद से खोदना 1018.14  
भंजित करना 539.8  
मरोडना 975.22  
मर्यादा लौंघना 809.4  
लुंघित करना 1017.6  
विभाजन करना 699.12  
तौडना फोडना  
तौडना मरोडना 975.23  
तौडना मरोडना  
अंग विरूपण करना 153.12  
कुतर्क करना 325.19  
तौडना मरोडना 975.23 ⇌  
तौडने वाला  
निवारक 920.18  
भजक 539.15  
तौडफोड  
तौडफोड 539.4 ⇌  
तौडफोड कर्ता  
तौडफोड कर्ता 539.19 ⇌  
तौड मरोड  
तौड मरोड 975.13 ⇌  
तौडा  
अपर्याप्तता 942.3  
खंड 938.1  
दुर्लभता 942.5  
नृत्य अंश 482.22  
बारूद. पत्तीता 927.21  
रूपया धैली 672.10  
हल: लट्टा 563.13  
तौडा पडना  
अपर्याप्त रहना 942.0  
आहार अभाव होना 627.11  
दुर्लभ होना 942.11  
तौडा होना  
दुर्लभ होना 942.11  
तौडू  
एकता भंग कर्ता 699.15  
तौडफोडू  
तौडफोडू कर्ता 539.19  
तौतलापन  
तुतलाहट 299.16  
तौत  
तौता 126.44 ⇌

वाघाल पक्षी सूची 126.11  
तौता उडना  
मरना 249.18  
तौताघरम  
अवसरवादी 827.18  
निष्ठाहीन 827.16  
तौताघरमी  
अवसरवादिता 827.3  
तौतापरी  
आम सूची 190.10  
तौता: बोली  
टैट 298.16  
तौता रटंत  
रटंत 356.4  
तौसी  
मादा तौता 126.45  
तौद  
शूल 925.8  
हैकाई 1079.11  
तौदन  
घाबुक 555.23  
तौदित  
हैका [हैकी] 1079.24  
तौप  
तौप 927.2 ⇌  
तौपखाना  
तौपखाना 929.4 ⇌  
तौप सेना 932.16  
तौप गाड़ी  
तौप गाड़ी 1070.18 ⇌  
तौपघर  
तौपखाना 929.4  
तौप घरई  
तौप घरई 1077.35 ⇌  
तौपघो  
तौप सैनिक 934.10  
तौपची पोत  
गनबोट 1072.45  
तौप बल  
बैटरी 932.29  
तौप ध्वनि  
तौप ध्वनि 296.20 ⇌  
तौपना  
आच्छादित करना 592.8  
तौप पोत  
गनबोट 1072.45  
तौप: बारूद प्याली  
तौप: बारूद प्याली 927.22 ⇌  
तौप सलामी  
तौप सलामी 1060.19 ⇌  
तौप सेना  
तौप सेना 932.16 ⇌  
बैटरी 932.29  
तौप सैनिक  
तौप सैनिक 934.10 ⇌  
तौबडा  
तौबडा 673.7 ⇌

तौबा शिल्पा मखाना  
आर्तनाद करना 386.17  
तौबी  
तदापि 507.15  
तौम  
समूह 690.1  
तौमनोम  
तौमनोम 458.18 ⇌  
तौमनोम (दे.)  
ग्रह स्वर 459.19  
तौमर  
तौमर 925.2 ⇌  
तौमरिका  
गोपी घंदन 100.14  
तौमा  
तुमाई कर्मी 567.4  
तौय  
जल 88.1  
तौयद  
धी 196.7  
जलद 88.25  
तौयनिधि  
समुद्र 24.1  
तौय शुक्रिका  
सीपी 124.19  
तौयाधार  
जलाशय 18.2  
तौयेश  
वरुण 773.43  
तौरई  
तौरी 189.23  
तौरण  
कंठ 145.9  
बदनवार 1059.8  
मेहराब 611.29  
स्वागत तौरण 1059.7  
तौरण द्वार  
स्वागत तौरण 1059.7  
तौरण पथ  
छतदार मार्ग 1063.24  
तौरण मार्ग  
छतदार मार्ग 1063.24  
तौरा [तौरी]  
तेरा [तेरी] 316.25  
तौरी  
तौरी 189.23 ⇌  
तौल  
छोटा तौला 962.44  
तौलक  
तौलने वाला 962.66  
तौलनहार  
तौलने वाला 962.66  
तौलना  
तौलना 962.63  
तौलनील  
सौदेबाड़ी 658.6  
तौल यंत्र  
वेइंग मशीन 962.17

## तोला

### तोला

तोला 962.43 ⇨

तोला: 1/12

माशा 962 49

तोसा: 5

छटाक 962 36

तोला: 80

सेर 962 54

### तोलित्र

वेइंग मशीन 962 17

### तोषाक

छोटा गद्दा 593 41

रुई गद्दा 593.45

हलका गद्दा 593 44

### तोषाक खाना

राज भंडार 670 4

### तोषा

यात्रा आहार 199.6

### तोषाखाना

भंडार घर 670 5

राज भंडार 670 4

संग्रहालय 669.8

### तोष

तृप्ति 361.5

प्रसन्नता 381 1

मनुहार 374 6

संतोष 360.5

### तोषक

तृप्त कर्ता 36, 18

तृषा शामक 180 22

प्रसन्न कर्ता 381.8

संतोषप्रद 360 20

### तोषण

तृप्ति प्रदान 361 6

प्रसन्न 381.2

### तोषणीय

तर्पणीय 361 17

### तोषवान

तुष्टीकरण 374 7

### तोषना

तृप्त करना 361 12

प्रसन्न करना 381 5

### तोषप्रद

संतोषप्रद 360 20

### तोषित

तृप्त 361 16

मनाया [मनाई] 374 19

### तोषी

तृप्त कर्ता 361 18

प्रसन्न कर्ता 381 8

संतोषशील 360 19

### तोष्य

तर्पणीय 361 17

### तोहफ़ा

उत्तमता उपमान सूची 313.4

उपहार 640.2

दुर्लभ 942 19

मंगल उपहार 796.2

### तोहमत

मिथ्या आरोप 875 10

लाघन 843 7

### तोहमती

लाघन कर्ता 843.24

### तोहरा [तोहरी]

तेरा [तेरी] 316 25

### तोहार

तेरा [तेरी] 316 25

### तोहिं

तुझे 316.37

### तोहि

तुझे 316 37

### तौस

उष्णता 104 1

तृषा 180 5

### तौसा

कड़ी गरमी 53 8

### तौसा [तौसी]

तृषा कालर 180 21

### तौ

तो 507 13

### तौक

हँसली 228 25

### तौम्रीक

ईश्वर दया 834 2

क्षमता 487.7

### तौबा

पश्चात्ताप 380 4

भोग त्याग 364 3

मद्यत्याग 209 27

### तौबाशिकन

संयम भगकारी 809 10

### तौर

उदाहरण 309 6

कार्य विधि 514 1

### तौर तरीक़ा

आचरण 808 1

कला शैली 397 14

कार्य विधि 514.1

परिपाटी 514 9

शिष्टता 733 7

सम्भीकरण 733 1

### तौर तरीक़े बाला

शिष्ट 733.18

### तौर पर

अनुसार 514 26

### तौर से

विधिपूर्वक 514 19

### तौरीत

तौरत 739 16

### तौरैत

तौरैत 739 16 ⇨

### तौर्य

तुरही ध्वनि 296.12

वाद्य ध्वनि 296.6

### तौल

तराजू 962 9

तौलन 962 2

भार माप 962 1

समीक्षा मापदंड 398 4

### तौल छल

कम तौल 962 3

### तौलन

तौलन 962.2 ⇨

### तौलना

तौलना 962 63 ⇨

### तौलने वाला

तौलने वाला 962 66 ⇨

### तौल बरतन: भार

तौल बरतन: भार 962.26 ⇨

### तौल यंत्र

वेइंग मशीन 962 17

### तौला

कूड़ी 679 45

तौलने वाला 962 66

तौला 679 48 ⇨

### तौला [तौली]

तुला [तुली] 962 65

### तौलाई

तौलन 962 2

### तौलित्र

वेइंग मशीन 962 17

### तौलिया

तौलिया 221.16 ⇨

### तौली

तौलने वाला 962 66

### तौल्य

समभारता 963 7

### तौषार

तुषार पात 90.9

हिमपुक्त 90 16

### तौहीद

ईश्वर अद्वैतता 764 5

### तौहीन

अपमान 855 1

### त्यक्त [त्यक्ता]

परित्यक्त 804.26

परित्यक्त 1003 4

### त्यक्त होना

परित्यक्त होना 1003.2

### त्यक्ता

परित्यक्त पत्नी 804.5

परित्यागी 1003.6

### त्यजनीय

परित्याज्य 1003 5

### त्याग

अपरिग्रह वृत्ति 360.4

दान 641 1

परित्याग 1003.1

भोग त्याग 364 3

विराक्ति 366.2

व्यसन त्याग 813.6

सयम 808.8

स्वत्व परित्याग 622 18

स्वार्थ त्याग 712.8

### त्याग करना

परित्याग करना 1003 3

### त्याग कर्ता

परित्यागी 1003 6

### त्यागना

निषिद्ध काम छोड़ना 880 7

परित्याग करना 1003 3

व्यसन त्यागना 813 8

### त्यागपत्र

त्यागपत्र 653 17 ⇨

### त्याग भोग

विपरीतता उपमान सूची 310 13

### त्यागशील

स्वार्थ त्यागी 712 19

### त्यागिनी

साधु स्त्री 790 17

### त्यागी

आत्मबलिदानी 754 23

दानी 641 27

भूमिहार ब्राह्मण 731 17

भोग त्यागी 364 12

विरक्त 366 6

सन्ध्यासी 790 11

साधु 790 16

स्वार्थ त्यागी 712 19

### त्यागी [त्यागिनी]

परित्यागी 1003 6

### त्याज्य

निषिद्ध 880 12

परित्याज्य 1003 5

### त्यौं

वैसे 514 24

### त्योरस

त्योरस 42 16 ⇨

त्रयोदशी 44 19

### त्योरी

त्योरी 284 10 ⇨

### त्योरी चढ़ाना

त्योरी चढ़ाना 284.39 ⇨

### त्योरस

त्योरस 42.16

### त्योहारी

उत्सव उपहार 56 3

उत्सवी 58 8

वार्षिक पारिश्रमिक 643 9

### त्योहार

उत्सव 56 1

### -त्र

संकट मोचक 910.10

### त्रपा

नृजाति 730 14

### त्रपुच

रौंगा 94 13

### त्रप्सा

कफ 215.16

### त्रय

तीन 948.21

तीनों 948.89



त्रय शासक	संकट मोचक 910 10	त्रिकाल 36.9 ⇨	त्रिगुण
तीन सदस्यीय शासक मंडल 890.7	त्रातार	त्रिसंध्या 47 2	तिगुना 949 44
त्रयी	सकट मोचक 910 10	त्रिकालज्ञ	त्रिगुणात्मक 762 12
तीन वेद 740 25	त्रावणकोर कोधीन (पूर्वनाम)	ज्योतिषी 261 2	प्रकृति तीन गुण 762 3
तीन समुदाय 687 5	केरल 28 21	त्रिकालज्ञ 261 44 ⇨	त्रिगुण संघर्षज देवता
पतिपुत्रवती स्त्री 236 9	त्रास	त्रिकालज्ञता	त्रिदेव 765 9
त्रयी धर्म	आघात 169 2	त्रिकालज्ञता 261.5 ⇨	त्रिगुण साम्य अवस्था
वैदिक धर्म 737 48	आतक 395 5	त्रिकाल ज्ञान	मूल प्रकृति 762.2
त्रयीमुख	अगतकानुभूति 353 6	त्रिकालज्ञता 261 5	त्रिगुण सूची
ब्राह्मण 731 13	कष्ट 392 1	त्रिकाल दर्शिता	त्रिगुण सूची 762.5 ⇨
त्रयोदश	भय 395 1	त्रिकालज्ञता 261 5	त्रिगुणा
तेरह 948 44	मनोघात 354.3	त्रिकाल दर्शी	माया 762.9
त्रयोदशाह	रत्न दोष 98 2	त्रिकालज्ञ 261 44	त्रिगुणातीत
तेरहवीं 253 10	त्रासक	त्रिकाल संध्या	ईश्वर 764 1
त्रयोदशी	कष्टप्रद 392 22	त्रिकाल संध्या 749.35 ⇨	त्रिगुणातीत 762.13 ⇨
त्रयोदशी	भयानक 395 25	त्रिकाल संध्योपासना	त्रिगुण ईश्वर 764 9
त्रयोदशी 44 19 ⇨	त्रासद	त्रिकाल संध्या 749 35	त्रिगुणात्मक
त्रय्या	कष्टप्रद 392 22	त्रिकालिक	त्रिगुणात्मक 762.12 ⇨
पूजा सामग्री पात्र 750 2	भयानक 395 25	त्रिकालीन	त्रिगुणात्मकता 762 4 ⇨
त्रस	त्रासदी	त्रिकालीन	त्रिगुणाधीनता
सचल 1037 19	द्रेजेडी 463 3	त्रिकालीय	त्रिगुणात्मकता 762 4
हृदय 146 5	त्रासना	त्रिकालीन 36 17	त्रिगुणित
त्रसना	कष्ट देना 392 16	त्रिकुटी	तिगुना 949 44
भयभीत होना 395 13	त्रासी	त्रिकुटी 140 13 ⇨	त्रिगुणी
त्रसर	कष्टप्रद 392 22	त्रिकूट	त्रिगुणात्मक 762 12
टसर 580 15	भयानक 395 25	समुद्री नमक 279 7	त्रिगुह
परछा 562 14	त्राहि त्राहि करना	त्रिकूट शैरवी	स्त्री वेश पुरुष नृत्य 462.5
त्रसरेणु	प्राण क्षमा मोंगना 250 12	मेरवी सूची 716 14	त्रिगुहक
छाया 774 36	त्रिश	त्रिकोण	स्त्री वेश पुरुष नृत्य 462 5
त्रसरेणु 100 7 ⇨	तीरावाँ 948 100	तीन उपमान सूची 948 22	त्रिघात
त्रसरैनि	त्रिशत	त्रिभुज 969 3	घनफल कर्म 955 6
त्रसरेणु 100 7	तीस 948 59	भग 152 13	त्रिघ्न
त्रसित	त्रि	त्रिशोण फल	शिव 767 1
आक्रांत 914 18	तीन 948 21	सिंघाड़ा 190 35	त्रिचक्र यान
त्रस्त	त्रिआयाम	त्रिकोण बाहु	त्रिचक्र यान 1070 4 ⇨
आतकित 395 23	तीन आयाम 964 9	त्रिकोण भुजा 968 28	त्रिचक्षु
कष्टग्रस्त 392 21	त्रिआयामता	त्रिकोणः भुजा	शिव 767 1
दुखी 391 24	त्रिआयामता	त्रिकोण भुजा 968 28 ⇨	त्रिजटा
भयभीत 395 19	त्रिआयामता	त्रिकोणः भुजा सूची	राक्षस स्त्री सूची 784.23
त्राण	त्रिआयामता	त्रिकोण भुजा सूची 968 29 ⇨	त्रिजीव
आमोचन 1015 2	पिंडाकारता 976 2	त्रिकोण भूमिति	चक्र चौथा भाग 960 3
उन्मुक्ति 1015 3	त्रिआयामी	त्रिकोण मिति 956 4	त्रिजीवा
कवच 921 2	पिंडाकार 976 15	त्रिकोण मिति 956 4 ⇨	अर्ध व्यास 972 14
शरण 910.4	त्रिआयामीय	त्रिकोणीय	अर्ध व्यास 972 14
सकट मोचन 910 1	त्रिआयामीय	त्रिभुजाकार 969 13	चक्र चौथा भाग 960 3
त्राण कर्ता	त्रिआयामीय	त्रिक्षार	त्रिणता
सकट मोचक 910 10	त्रिआयामीय	त्रिक्षार 87 11 ⇨	धनुष 926 8
त्राण पलायन	त्रिक	त्रिक्षार सूची	त्रिणाशिकेत
त्राण पलायन 916.3 ⇨	तिगुना 949 44	त्रिक्षार सूची 87.12 ⇨	नारायण (नर) 764 19
त्राण पलायित	तीन समुदाय 687 5	त्रिखंडीय	त्रिसंक्रिका वीणा
त्राण पलायित 916.21 ⇨	त्रिककुद	तीन खंडीय 938.54	सितार 461 88
त्राण पलायित होना	त्रिककुद	त्रिखंडीय 612.11 ⇨	त्रित
त्राण पलायित होना 916.12 ⇨	प्रधान 764 23	त्रिगण	ऋषि मुनि सूची 789.17
त्रात	विष्णु 768 1	त्रिवर्ग 761 20	त्रितय
रक्षित 908 19	त्रिककुम	त्रिवर्ग 761 20	तीन समुदाय 687.5
सकटमुक्त 910 9	इंद्र 773 5	त्रिगर्ता	
त्राता	त्रिका	मोती 97.2	
आमोचक 1015.11	कूप ढक्कन 19 7		
मसीहा 791.3	त्रिकाय		
	गीतम बुद्ध 793 1		
	त्रिकाल		
	तीन उपमान सूची 948 22		

## त्रिताप

**त्रिताप**  
 दुःख त्रय 391 5  
**त्रिवेदी**  
 सन्ध्यासी 790.11  
**त्रिवरा**  
 तैत्तिरीय देवता 772 34  
 देवता 772.1  
**त्रिवरापुत्र**  
 लीग 281 30  
**त्रिवरा मंजरी**  
 तुलसी 13 9  
**त्रिवरा बधु**  
 अप्सरा 782 2  
**त्रिवरांकुरा**  
 इंद्र वज्र 928 8  
**त्रिवराधिप**  
 शिव 767 1  
**त्रिवराध्यक्ष**  
 विष्णु 768.1  
**त्रिवरारि**  
 असुर 783.6  
**त्रिवशालय**  
 सुमेरु 17.17  
 स्वर्ग 259 1  
**त्रिवशेष**  
 इंद्र 773 5  
**त्रिदिनस्पृश**  
 त्रिदिनस्पृश तिथि 44 5  
**त्रिदिनस्पृश तिथि**  
 त्रिदिनस्पृश तिथि 44.5 ⇨  
**त्रिवेव**  
 तीन उपमान सूची 948.22  
 त्रिदेव 765.9 ⇨  
 त्रिदेव 772.30 ⇨  
 त्रिमूर्ति 765 1  
**त्रिवेव सूची**  
 त्रिदेव सूची 765 10 ⇨  
 त्रिदेव सूची 772.31 ⇨  
**त्रिवोष**  
 त्रिदोष 215.12 ⇨  
**त्रिवोष सूची**  
 त्रिदोष सूची 215 13 ⇨  
**त्रिधातु**  
 त्रिदोष 215 12  
**त्रिधामा**  
 अग्नि 106 1  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767 1  
**त्रिधामूर्ति**  
 ईश्वर 764 1  
**त्रिधारा**  
 गंगा नदी 20 10  
**त्रिनयना**  
 पार्वती 776.9  
**त्रिनाभ**  
 बानन अवतार 769.36  
 विष्णु 768 1

**त्रिनेत्र**  
 तीन उपमान सूची 948.22  
 शिव 767 1  
**त्रिपक्षीय**  
 त्रिपक्षीय 885.31 ⇨  
**त्रिपताक**  
 त्रिपुत्र 225.20  
**त्रिपथ**  
 दोराहा 1084 4  
**त्रिपथगा**  
 गंगा नदी 20.10  
**त्रिपव**  
 विष्णु 768 1  
**त्रिपदा**  
 गायत्री 452 12  
**त्रिपदार्थ सूची**  
 त्रिपदार्थ सूची 765.11 ⇨  
**त्रिपदिका**  
 तिहाई 949 38  
**त्रिपदी**  
 गायत्री 452 12  
 तिपाई 595 41  
**त्रिपर्ण**  
 पलारा 13 13  
**त्रिपाटीय**  
 तीन खंडीय 938 54  
**त्रिपार्थीय**  
 त्रिपार्थीय 997.14 ⇨  
**त्रिपिटक**  
 त्रिपिटक 740 3 ⇨  
**त्रिपिटकः भाग सूची**  
 त्रिपिटकः भाग सूची 740 4 ⇨  
**त्रिपुंड**  
 त्रिपुत्र 225.20  
**त्रिपुत्र**  
 त्रिपुत्र 225.20 ⇨  
**त्रिपुट**  
 तलहटी 16 13  
 बाण 926 16  
 हाथ 959.18  
**त्रिपुटक**  
 त्रिभुज 969 3  
**त्रिपुटा**  
 इलायची 281.8  
**त्रिपुटी**  
 छोटी इलायची 281 9  
 तीन. समुदाय 687.5  
 त्रिकुटी 140.13  
 ध्यान ध्याता ध्येय 755.2  
**त्रिपुरंदर**  
 त्रिपुर नाराक 531 10  
**त्रिपुर**  
 राक्षस सूची 784 4  
**त्रिपुराञ्ज**  
 त्रिपुर नाराक 531.10  
**त्रिपुर नाराक**  
 त्रिपुर नाराक 531.10 ⇨

**त्रिपुर शैरवी**  
 त्रिपुर शैरवी 776.15 ⇨  
**त्रिपुर सुंदरी**  
 दुर्गा 776 7  
**त्रिपुरांतक**  
 त्रिपुर नाराक 531 10  
 शिव 767 1  
**त्रिपुराविका**  
 कामदेवी सूची 774.22  
**त्रिपुरा**  
 त्रिपुर शैरवी 776 15  
 त्रिपुरा 28.36 ⇨  
 दुर्गा 776 7  
**त्रिपुराः राजधानी**  
 त्रिपुरा राजधानी 28 37 ⇨  
**त्रिपुरारि**  
 त्रिपुर नाराक 531 10  
 शिव 767 1  
**त्रिपुरेश्वर**  
 मय 783 20  
**त्रिपौलिया**  
 त्रिपौलिया 608.10 ⇨  
**त्रिबली**  
 त्रिबलय 134 9  
**त्रिभंग**  
 त्रिभंगी मुद्रा 1029 5  
**त्रिभंगी**  
 तीनताल 458.41  
 त्रिभंगी मुद्रा 1029 5  
**त्रिभंगी मुद्रा**  
 त्रिभंगी मुद्रा 1029 5 ⇨  
**त्रिभ**  
 चक्र चौथा भाग 960.3  
 समकोण 970 2  
**त्रिभागीय**  
 तीन खंडीय 938.54  
**त्रिभुज**  
 त्रिभुज 969.3 ⇨  
 त्रिभुजाकार 969 13  
**त्रिभुजः कर्ण**  
 कर्ण भुजा 968.31  
**त्रिभुज क्षेत्रफल**  
 त्रिभुज क्षेत्रफल 966.2 ⇨  
**त्रिभुजाकार**  
 त्रिभुजाकार 969 13 ⇨  
**त्रिभुजीय**  
 त्रिभुजाकार 969 13  
**त्रिभुवन**  
 तीन लोक 258.3  
 ब्रह्मांड 1 1  
**त्रिभुवन सुंदरी**  
 पार्वती 776.9  
**त्रिभुवनीय**  
 ब्रह्मांडीय 1 15  
**त्रिभुवनेश्वर**  
 ईश्वर 764.1  
**त्रिभुन**  
 तिखंडा भवन 602.23

**त्रिमात्र**  
 ओम् 741.19  
**त्रिमात्रा**  
 प्लुत मात्रा 410 17  
**त्रिमासीय**  
 त्रैमासिक 71 20  
**त्रिमुख**  
 गीतम बुद्ध 793 1  
**त्रिमुखा**  
 माया देवी 793 13  
**त्रिमुखी**  
 माया देवी 793.13  
**त्रिमूर्ति**  
 ईश्वर 764 1  
 तीन. उपमान सूची 948.22  
 त्रिदेव 772 30  
 त्रिमूर्ति 765 1 ⇨  
 नयकुमारी सूची 774 29  
 ब्रह्म शक्ति 764 26  
**त्रियंबक**  
 शिव 767 1  
**त्रिया**  
 स्त्री 236 3  
**त्रिया चरित्र**  
 स्त्री नाज नखरा 860 2  
**त्रियान**  
 त्रियान 737.17 ⇨  
**त्रियान सूची**  
 त्रियान सूची 737.18 ⇨  
**त्रियामा**  
 यमुना 20 18  
 रात 48 1  
**त्रियुग**  
 विष्णु 768 1  
**त्रियुगवीर**  
 तीन सदस्यीय शासक मंडल 890 1  
**त्रिरत्न**  
 त्रिरत्न 737.9 ⇨  
**त्रिरत्न सूची**  
 त्रिरत्न सूची 737 10 ⇨  
**त्रिराशि**  
 समकोण 970 2  
**त्रिलवण**  
 त्रिलवण 279.2 ⇨  
**त्रिलवण सूची**  
 त्रिलवण सूची 279.3 ⇨  
**त्रिलोक**  
 तीन उपमान सूची 948.22  
 तीन लोक 258 3  
 ब्रह्मांड 1.1  
**त्रिलोक पति**  
 तीन लोक. स्वामी 258 4  
**त्रिलोकाल्पा**  
 विष्णु 768.1  
**त्रिलोकी नाथ**  
 ईश्वर 764 1  
 तीन लोकः स्वामी 258.4  
 विष्णु 768.1

<b>त्रिलोकीय</b>	<b>त्रिशुच</b>	<b>त्रुटिपूर्ण</b>	<b>त्र्यम्बक</b>
ब्रह्मांडीय 1 15	धर्म 735.1	दुर्गुणी 314.8	शिव 767 1
<b>त्रिलोकीश्वर</b>	<b>त्रिशूल</b>	<b>त्रुटिहीन</b>	<b>त्र्यम्बर</b>
ईश्वर 764.1	कोंटा 1016.33	परिपूर्ण 313 14	ओम् 741 19
<b>त्रिलोकेश</b>	तीन उपमान सूची 948.22	<b>त्रुटिहीनता</b>	<b>त्र्यग्नि</b>
विष्णु 768 1	त्रिशूल 407.14 ⇨	परिपूर्णता 313.5	त्रिदेव 765.9
शिव 767 1	त्रिशूल 925.3 ⇨	<b>त्रेता</b>	<b>त्र्यम्ब</b>
<b>त्रिलोकेश्वर</b>	शिव त्रिशूल 767 11	त्रेतायुग 40 13	तीनताल 458 41
सूर्य 8 1	हस्त घिहन सूची 261 38	दो उपमान सूची 948.20	त्रिभुजाकार 969 13
<b>त्रिलोचन</b>	<b>त्रिशूल (दे. शिवः त्रिशूल)</b>	<b>त्रेताकालीन</b>	<b>त्र्यालय</b>
शिव 767 1	त्रिशूल 925 3	त्रेतायुगीन 40 18	स्वर्ग 259.1
<b>त्रिलोचना</b>	<b>त्रिशूलधारी</b>	<b>त्रेताग्नि</b>	<b>त्वं</b>
दुर्गा 776 7	त्रिशूलधारी 930 12 ⇨	यज्ञाग्नि 106 4	तू 316 18
<b>त्रिवट</b>	<b>त्रिशूल धारी</b>	<b>त्रेतायुग</b>	<b>त्वक्पत्र</b>
राग गायन शैली सूची 460 39	शिव 767 1	त्रेतायुग 40 13 ⇨	दारचीनी 281.20
<b>त्रिवर्ग</b>	<b>त्रिशूल बरछी भाला</b>	<b>त्रेतायुगीन</b>	<b>त्वर्गकुरावली</b>
त्रिवर्ग 761.20 ⇨	शूलास्त्र 925.1	त्रेतायुगीन 40 18 ⇨	त्वचा स्तर सूची 134.7
<b>त्रिवर्ग सूची</b>	<b>त्रिशूली</b>	<b>त्रेतिनी</b>	<b>त्वग त्वचा</b>
त्रिवर्ग सूची 761 21 ⇨	त्रिशूलधारी 930 12	यज्ञाग्नि 106 4	त्वचा स्तर सूची 134 7
<b>त्रिवर्ण</b>	शिव 767 1	<b>त्रेयायुगीय</b>	<b>त्वग्मेदन</b>
द्विज 731 7	<b>त्रिशृंग</b>	त्रेतायुगीन 40.18	खतना 798 26
<b>त्रिवलय</b>	त्रिभुज 969 3	<b>त्रैकालिक</b>	<b>त्वग्स्तर</b>
त्रिवलय 134 9 ⇨	<b>त्रिशृंगी</b>	त्रिकालीन 36.17	त्वचा स्तर 134.6
<b>त्रिवली</b>	त्रिभुजाकार 969 13	<b>त्रैदशिक</b>	<b>त्वचा</b>
त्रिवलय 134 9	<b>त्रिष्ट</b>	ईश्वर कृत 764 36	इन्द्रिय सूची 268 2
<b>त्रिवलीक</b>	त्रिचक्र यान 1070.4	<b>त्रैमानुर</b>	उत्तल सूची 985 21
पुदा 152 7	<b>त्रिसंध्य व्यापिनी</b>	लक्ष्मण 770.49	धर्म 582 1
<b>त्रिविक्रम</b>	त्रिसंध्यस्पृश तिथि 44 6	<b>त्रैमासिक</b>	छाल 116 5
वामन अवतार 769 36	<b>त्रिसंध्यस्पृश तिथि</b>	त्रैमासिक 71 20 ⇨	त्वचा 134 1 ⇨
विष्णु 768 1	त्रिसंध्यस्पृश तिथि 44 6 ⇨	<b>त्रैयंबक</b>	त्वचा (दे.)
विष्णु तीन डग 768 5	<b>त्रिसंध्या</b>	शिव विषयक 767 2	स्पर्श अनुभूति 269 1
<b>त्रिविष्टप</b>	त्रिकाल संध्या 749 35	<b>त्रैलोक्य</b>	<b>त्वचा झिल्ली</b>
तिष्ठत 27 7	त्रिसंध्या 47.2 ⇨	तीन लोक 258 3	त्वचा झिल्ली 134.2 ⇨
<b>त्रिवेणी</b>	संध्योपासना 749 33	ब्रह्मांडीय 1 15	<b>त्वचा तिल</b>
इडा-पिंगला-सुषुम्ना संगम 757 2	<b>त्रिसंध्या सूची</b>	<b>त्रैलोक्य नाथ</b>	त्वचा तिल 165 9 ⇨
गंगा-यमुना संगम 20.13	त्रिसंध्या सूची 47 3 ⇨	राम 770 1	<b>त्वचा मल</b>
राग रागिनी सूची 457 24	<b>त्रिसर</b>	<b>त्रैविक्रम</b>	त्वचा मल 215.5 ⇨
<b>त्रिवेणु</b>	तीन लड़ी गाला 228 42	विष्णु विषयक 768 18	<b>त्वचा रंग</b>
रथ 1071.46	<b>त्रिस्कंध</b>	<b>त्रैविष्टप</b>	त्वचा रंग 134 4 ⇨
<b>त्रिवेद</b>	फलित ज्योतिष 281 1	स्वर्ग निवासी 259 11	<b>त्वचा रंग सूची</b>
तीन वेद 740.25	<b>त्रिस्तनी</b>	<b>त्रोटक</b>	त्वचा रंग सूची 134.5 ⇨
<b>त्रिशंकु याजी</b>	राक्षस स्त्री सूची 784 23	राग रागिनी सूची 457 24	<b>त्वचा रोग</b>
विश्वामित्र 789 20	<b>त्रिस्तरीय</b>	<b>त्रोटी</b>	त्वचा रोग 165.1 ⇨
<b>त्रिशरण</b>	त्रिखंडीय 612 11	घोष 143.5	<b>त्वचा बलय</b>
गीतम बुद्ध 793.1	<b>त्रिस्पर्शा</b>	<b>त्र्यंबक</b>	त्वचा बलय 134.8 ⇨
<b>त्रिशला</b>	त्रिसंध्यस्पृश तिथि 44.6	ज्योतिर्लिंग सूची 746.19	<b>त्वचा विवर</b>
महावीरः माता 792.6	<b>त्रिस्पृशा</b>	रुद्र सूची 767 36	त्वचा विवर 134 4
<b>त्रिशालक</b>	त्रिसंध्यस्पृश तिथि 44 6	शिव 767.1	<b>त्वचा स्तर</b>
तीन सदस्यीय शासक मंडल 890.7	<b>त्रिहायणी</b>	<b>त्र्यंबक सत्त्वा</b>	त्वचा स्तर 134.6 ⇨
<b>त्रिशिख</b>	द्रोपदी 771 64	कुबेर 779.4	<b>त्वचा स्तर सूची</b>
शिवः त्रिशूल 767 11	<b>त्रुटि</b>	<b>त्र्यंबका</b>	त्वचा स्तर सूची 134.7 ⇨
<b>त्रिशिरा</b>	अपर्याप्तता 942.3	दुर्गा 776 7	<b>त्वम्</b>
राक्षस सूची 784.4	दूट फूट 539 2	<b>त्र्यंबकेश्वर</b>	तुम 316.17
<b>त्रिशीर्ष</b>	दुर्गुण 314.4	शिवालिंग सूची 746 17	<b>त्वरक यंत्र</b>
शिव 767.1	मूल 498.3	<b>त्र्यंबिका</b>	ऐक्सलरेटर 1078.13
<b>त्रिश्रीर्षक</b>	<b>त्रुटित</b>	पार्वती 776.9	<b>त्वरण</b>
शिवः त्रिशूल 767.11	तड़का [तड़की] 544.20	<b>त्र्यंबरा</b>	वेग वर्धन 1043.6
	भंजित 539.12	तीन सदस्यीय शासक मंडल 890.7	

त्तरा

त्तरा

दुतता 1044 1  
शीघ्रता 496.1

त्तरा मापी

त्तरा मापी 958 29 ⇨

त्तरायक

वेग वर्धक 1043.18

त्तरावान [त्तरावती]

दुतगामी [दुतगामिनी] 1044 7

त्तरित

वेग वर्धित 1043 17

त्तरित्र

ऐक्सलरेटर 1078 13

वेग वर्धक 1043 18

त्वष्टा

काष्ठ कर्मी 597 24

त्वष्टा 773.30 ⇨

बारह आदित्य सूची 777.4

विष्णु 768 1

त्वष्टा (दे.)

विश्वकर्मा 773 44

त्वाष्ट्रा

इन्द्र वज्र 928 8

त्वाष्ट्री

सज्ञा 774 94

त्विषा

दीप्ति 287 16

प्रकाश 287 1

प्रकाश किरण 288 1

भार 963 1

वाचा 299 1

त्सर

तलवार मूठ 924.11

त्साङ्ग पो

ब्रह्मपुत्रा 20 17

## थ

थंबटेक (अँ)

ड्राइंग पिन 417 8

थंबी

टेक धूनी 596.4

थंभ

स्तंभ 607 7

थंभन

गति स्तंभन 1047 6

स्तंभन 758 29

थंभ होना

गति स्तंभन होना 1047 17

थंभा

स्मारक स्तंभ 255 13

थक

थक्का 938 24

थक कर

अति परिश्रम पूर्वक 493.15

थकन

थकान 492 4

थकना

काया शिथिल होना 159.8

थकना 492.10 ⇨

परिश्रम करना 493.6

वेग कम होना 1043 13

थका [थकी]

क्षमताहीन 488.15

थका [थकी] 492.15 ⇨

थकाऊ

थकाऊ 492.17 ⇨

थकान

थकान 492.4 ⇨

थकान उतारना

विश्राम करना 494 19

थकान मिटाना

विश्राम करना 494 19

थका मौदा [थकी मौदी]

बहुत थका 492 16

शिथिल 1045.13

थकावट

थकान 492.4

थका हारा [थकी हारी]

बहुत थका 492.16

थकिया

थक्का 938 24

थकी चाल

शिथिल गति 1045.7

थकी मौदी चाल

शिथिल गति 1045 7

थके मौदे

शिथिल गति से 1045.17

थके हारे

शिथिल गति से 1045.17

थक्का

थक्का 938 24 ⇨

व्रण खुरंड 167 14

थक्कापन

स्कदित अवस्था 79 6

थक्का बनना

स्कदित होना 81 10

थक्केदार

स्कंदित 81 17

थका

थाला 551 23

दुकानदार आसन 595 6

थनी

छोटा ढेर 686 7

ढेर 686 6

थन

थन 146.10 ⇨

थन (दे.)

स्त्री स्तन 146.7

थनाकार गलथैली

गलस्तन 134 16

थनी

गलस्तन 134 16

थनेत

ग्राम मुखिया 892.6

थानेदार 866 9

थपई

थपैया 545 10

थपक

थपक 296.4 ⇨

थपकना

थपकना 296.25 ⇨

थपथपाना 393 13

धपाई करना 545 24

शाबाशी देना 841.28

थपका

थपक 296 4

थपकाई

आघात वर्धन 545 6

धपाई 545 9

थपकी

थपक 296 4

थपथपाहट 393 7

थपकी देना

थपकना 296 25

थपथपाना 393 13

शाबाशी देना 841.28

थपकी बजाना

ताली बजाना 296 23

थपथप

ढमढम 296 11

थपथपाहट 297 28

थपथपाई

धपाई 545 9

थपथपाना

थपथपाना 393.13 ⇨

थपथपाहट

थपक 296 4

थपथपाहट 297.28 ⇨

थपथपाहट 393 7 ⇨

थपनहार

थपैया 545 10

थपना

धरा जाना 1019 9

मुँगरा 559.29

थपा [थपी]

थपैया 545 10

थपाई

थपाई 545 9 ⇨

थपाई करना

थपाई करना 545 24 ⇨

थपाना

स्थित करना 1020.7

थपुआ

निचली खपरैल 599.34

थपेङ्गना

छपकना 668 17

थपेङ्गा

तमाचा 918.16

तैज झोका 85.13

थक्का 1051.13

थपैया

थपैया 545 10 ⇨

थपोरी

ताली ध्वनि 296.3

थपपङ्ग

तमाचा 918 16

थमना

गति स्तंभन होना 1047 17

गतिहृत होना 1047.14

निश्चल होना 1038 5

विराम होना 1048 3

थमला

स्तंभ 607 7

थमा [थमी]

अप्रवाहित (जल) 21 40

गतिरुद्ध 1047 23

गति स्तंभित 1047.25

गतिहृत 1047 21

निश्चल 1038 8

प्रवाहहीन 1041 9

विकृत (यत्र) 536 10

विरामित 1048 6

सहमा [सहमी] 395 21

थमाई

निश्चलन 1038 3

थमाना

धरना 1019 10

विराम करना 1048 4

हस्तातरित करना 638 12

थमो

लाल बत्ती 1067 14

थरथर

भय कंपित 395 20

थरथराता [थरथराती]

भय कंपित 395 20

थरथराना

भय कंपित होना 395.14

थरथराहट

कंपन 1039.11

थरथरी

झुरझुरी 1039 13

भय कंपन 395 2

थरमस

थरमस 678.12 ⇨

थरमस (अँ)

थरमस 678 12

थरसल

स्तंभन कृत 758.42

थर्ड डिग्री (अँ)

पुलिस यंत्रणा 391.15

थर्म

थर्म 103.10 ⇨

थर्म (अँ)

थर्म 103.10

थर्मल स्केल (अँ)

ताप क्रम 103 4

थर्माकोल

थर्माकोल 990.13 ⇨

थर्माकोल (अँ)

थर्माकोल 990.13

**धर्माभीटर**  
धर्माभीटर 103.3 ⇨  
**धर्माभीटर (अं)**  
ज्वरमापी 171 4  
धर्माभीटर 103 3  
**धर्मोस्टेट (अं)**  
ताप सतुलित्र 105 15  
**धरता [धरती]**  
भय कंपित 395 20  
**धराना**  
भय कंपित होना 395 14  
**धराहट**  
भय कपन 395 2  
**धर्सडे (अं)**  
बृहस्पतिवार 46 7  
**धल**  
थलीय धरातल 25 3  
महाद्वीप 26 4  
स्थान 33 1  
**धलग्रीवा**  
धलग्रीवा 26 11 ⇨  
**धलचर**  
धलचर जीव 121 7  
थलवासी 616 18  
**धलचर जीव**  
धलचर जीव 121 7 ⇨  
**धलचरा: (प्र)**  
धलचर जीव 121 7  
**धल डमरु मध्य**  
धलग्रीवा 26 11  
**धल डाक**  
स्थल डाक 444 25  
**धलधलाना**  
संचलित होना 1037 13  
**धल दर्शन**  
थल दर्शन 1080 11 ⇨  
**धल पक्षी**  
उड़ानहीन पक्षी 126 4  
**धल प्रदेश**  
थलीय धरातल 25 3  
**धल मार्ग**  
थल मार्ग 1063.9 ⇨  
**धलयान**  
थलयान 1071.1 ⇨  
**धल युद्ध**  
थल युद्ध 905.12 ⇨  
**धलवासी**  
थलवासी 616 18 ⇨  
**धल संधि**  
थलग्रीवा 26 11  
**धल सेना**  
थल सेना 932.15 ⇨  
**धल सैनिक**  
थल सैनिक 934.6 ⇨  
**धला**  
थाला 551.23  
दुकानदार आसन 595 6

**धलावतरण**  
लैंडिंग 1081 26  
**धलिया**  
थाली 685 2  
**धली**  
थलीय धरातल 25 3  
दुकानदार आसन 595 6  
दोमट 100 17  
पृथ्वी 9 1  
महाद्वीप 26 4  
**धलीय**  
थलीय 25.30 ⇨  
**धलीय जल**  
भूभागीय समुद्र 24 3  
**धलीय धरातल**  
थलीय धरातल 25 3 ⇨  
**धवाई**  
राजगीर 599 20  
**धहराना**  
भय कंपित होना 395 14  
**धहाना**  
गहराई मापना 958 56  
**धौंग**  
अड़ड़ा 696 10  
चोर अड़ड़ा 864 6  
रहस्य 823 7  
सुराग 867 1  
**धौंगी**  
गुप्तचर 866 12  
चोर सरदार 864 7  
चोरी का माल दुकानदार 961 12  
**धांगी**  
चोरी माल खरीदार 864 9  
**धौंगीदारी**  
चोरी का माल विक्रय 661.6  
**धौवला**  
थाला 551 23  
**धौह**  
अड़ड़ा 696 10  
शरण स्थल 910 5  
स्थान 33 1  
**धा [धी]**  
अतीत 63.8  
धा [धी] 65.2 ⇨  
**धाक**  
सीमा 1001 1  
सीमा चिह्न 1001 15  
**धाट**  
खड़ा रहना मुद्रा 1029 4  
धाट 458.19 ⇨  
पैतरा 486.20  
**धाती**  
धरोहर 633 27  
पूँजी 628 9  
संचित निधि 628 7  
**धान**  
अड़ड़ा 696 10  
अदद 948.2

कपड़ा. धान 579 22  
कपड़ा लबाई 965.3  
देव मंदिर 745.30  
पशुशाला 603.19  
वस्त्र लबाई 579 21  
वेदी 745 45  
स्थान 33 1  
**धाना**  
धाना 866 8 ⇨  
**धानादार**  
धानेदार 866 9  
**धानापति**  
ग्राम देवता 772 27  
धानेदार 866 9  
स्थान देवता 772 22  
**धानेदार**  
धानेदार 866.9 ⇨  
**धानैत**  
ग्राम देवता 772.27  
ग्राम मुखिया 892 6  
धानेदार 866 9  
स्थान देवता 772 22  
**धाप**  
ताल 458 23  
थपक 296 4  
थपथपाहट 297 28  
थपाई 545 9  
थाप 458 51 ⇨  
थापा 800 19  
प्रभाव 511 1  
**धापन**  
आधारण 1019 5  
स्थितन 1020 3  
**धापन:**  
कुण्डाई करना 986 7  
ठोकना 1051 30  
थपाई करना 545 24  
दूढ़ आधारित करना 1019 12  
स्थित करना 1020 7  
**धापन वाला**  
थपाया 545 10  
**धाप वाद्य**  
आनन्द वाद्य 461 16  
पाणि वाद्य 461 19  
**धापा**  
ठप्पा 414 12  
थपक 296 4  
थापा 800.19 ⇨  
सौंघा 565 18  
हुथेली छाप 414 10  
**धापी**  
थाप 458 51  
मुँगरा 559.29  
**धा: भाव**  
भूतता 65.1  
**धाप**  
उँटड़ा 1076.20  
गति स्तमन 1047.6

निश्चलता 1038.2  
निश्चलन 1038.3  
पकड़ 868 3  
प्रहार सहन शक्ति 920.2  
**धापना**  
अवरुद्ध करना 1047.19  
आदान करना 637 3  
गति हरना 1047 15  
दायित्व लेना 895 6  
पकड़ना 868.30  
बंदी बनाना 868 29  
विराम करना 1048.4  
**धाल**  
खान 685 11  
ट्रे 685 10  
धाल 685.1 ⇨  
परात 685 8  
**धाला**  
घिरी खाड़ी 24 7  
थाला 551 23 ⇨  
परात 685 8  
**धाली**  
आहार पदार्थ 186 1  
थाली 685.2 ⇨  
पूरी थाली 199 9  
**धावरा**  
थाला 551 23  
**धाह**  
अंत 995 1  
गहराई माप 958.17  
गहरी खोज 336 6  
गाध स्थल 984 6  
जलराशि गहराई 984 2  
टोह 336.12  
सुराग 867 1  
**धाहना**  
आकलन करना 947 17  
गहराई मापना 958.56  
**धाह लेना**  
गहराई मापना 958.56  
**धाहडीन**  
अगाध्य 984.10  
**धिपु**  
भूटान राजधानी 27 14  
**धिपटर (अं)**  
नाट्यशाला 471 12  
प्रेक्षागार 471.1  
सिनेमा घर 471.11  
**धिपट्टिकैलिटी (अं)**  
नाटकीयता 466.2  
**धित**  
आसीन 1028 10  
स्थित 1020.8  
**धिति**  
स्थिति 1020 1  
**धिर**  
अचंचल 860 25  
अविचल 500.15

## धिरक

धैर्यशील 394.15  
निरुचल 1038.8  
प्रवाहहीन 1041.9  
स्थविर 744.44  
स्थावर 1038.7

## धिरक

दुमक 1084.8  
धिरकन 1084.12

## धिरकन

धिरकन 1084.12 ⇨

## धिरकना

इतराना 880.15  
दुमकना 1084.31  
धिरकना 1084.36 ⇨  
नाघना 482.26

## धिरण

निरुचलन 1038.3

## धिरता

धैर्य 394.6  
निरुचलता 1038.2

## धिरना

निधरना 1031.23

## धिष्ठ (तमिल)

पुरुष उपाधि सूची 856.2

## धिसारस

धिसारस 446.14 ⇨

## धीसित (अं)

तर्काधार 325.7  
पूर्व पक्ष 324.11  
शोध लेख 449.18

## धुक्का फ़जीहत

धुक्कार 855.4

## धुक्ना

अपर्याप्त रहना 942.9

## धुकाई

दुर्लभता 942.5

## धुकी

धुक्कार 855.4  
धिक्कार 843.5  
भर्त्सना: उद्गार सूची 843.28

## धुतकार

धुत्कार 855.4

## धुतकारना

धुतकारना 855.8 ⇨

## धुथनी

धुथन 143.6

## धुथुआना

धिक्कारना 843.16

## धुल्मुल

मांसल 154.33

## धुल्मुलाता [धुल्मुलासी]

मांसल 154.33

## धुलमा

पहाड़ी कबल 593.7

## धु

धिक्कार 843.5  
भर्त्सना: उद्गार सूची 843.28

## धुक

धुक 215.22 ⇨  
पान- पीक 215.23

## धुकदानी

धुकदानी 218.23 ⇨

## धुकना

धुतकारना 855.8

## धुका चाटना

मुकरना 338.25

## धुत्कार

धुत्कार 855.4 ⇨

## धुथन

धुथन 143.6 ⇨

## धुथनी

अगला झुकाव 1073.21

धुथन 143.6

नल टोटी 19.28

बरतन- चोच 680.23

## धुथु

कड़वा [कड़वी] 276.7

धुत्कार 855.4

## धु थु

भर्त्सना उद्गार सूची 843.28

## धुथु करना

कड़वा लगना 276.3

## धु थु करना

धिक्कारना 843.16

निंदा करना 843.14

## धुन

आधार स्तंभ 607.8

## धुनी

आधार सूची 596.2

आधार स्तंभ 607.8

टेक धुनी 596.4

टीहा 596.12

लीवर टेक 1062.4

शहतीर 611.22

## धुली

दलिया 192.2

## धुई धुई

नृत्य बोल सूची 462.27

## धुगली

धुगली 577.10 ⇨

## धुगलीदार परिधान

धुगलीदार परिधान 583.5 ⇨

## धे धे

नृत्य बोल सूची 462.27

## धेला

धेला 673.1 ⇨

रकसीक 1087.34

रुपया धेला 672.10

## धेली

जेब 672.1

धेली 673.12 ⇨

पुटी 134.3

पेक 1014.2

रुपया धेली 672.10

## धैलीदार

कैशियर 630.13

## धैली शाह

साहूकार 633.4

सेठ 626.8

## धोक

अधिक 944.5

देर 686.6

धोक 666.13 ⇨

धोक 686.5 ⇨

धोक सामान 666.6

समूह 690.1

स्टीक 666.9

## धोकदार

धोक व्यापारी 657.4

धोक दुकानदार

धोक व्यापारी 657.4

## धोक फ़रोश

धोक व्यापारी 657.4

## धोक बाज़ार

धोक बाज़ार 663.5 ⇨

## धोक में

अधिकत 944.11

धोक में 666.15 ⇨

## धोक व्यापारी

धोक व्यापारी 657.4 ⇨

## धोक सामान

धोक सामान 666.6 ⇨

## धोका [धोकी]

अपर्याप्त 942.17

अत्य 942.13

दुर्लभ 942.19

न्यूनाशीय 939.15

## धोका धोका

खुद मे 666.16

## धोका धोका [धोकी धोकी]

अत्यत 942.23

## धोका पढ़ना

अपर्याप्त रहना 942.9

## धोकापन

अल्पता 942.1

## धोका पानी

उथली जलराशि 984.4

## धोका बहुत

अल्पाधिक 941.9

## धोका बोलना

वाघाल न होना 429.17

धोका लिखा बहुत समझना

सारांश: उक्ति सूची 449.34

## धोका सा

अत्यल्प 942.16

पुट मात्र 1008.26

## धोके धोके

अल्पतः 942.23

## धोके में

सारांशतः 449.33

## धोके में कहना

सारांश करना 449.22

## धोथ

तौंद 148.2

## धोथा

सौंघा सूची 565.20

## धोथा [धोथी]

अनुपयोगी 525.8

पोला [पोली] 271.25

सारहीन 84.20

## धोथा अनाज

धोथा अनाज 187.5 ⇨

## धोथा घना

अल्पज्ञ 306.17

## धोथापन

पोलापन 271.18

## धोथ

प्रहार 918.1

मोटा आलेप 292.2

## धोथना

आरोप लगाना 875.22

बलात देना 638.10

मिथ्या आरोप लगाना 875.23

## धोथका

धुथन 143.6

## ध्योरम (अं)

ज्यामितीय प्रमेय 956.3

## ध्योरी आफ़ रिंलेटिविटी (अं)

सापेक्षता सिद्धांत 964.17

## ध्रष्ट (अं)

प्रणोदन शक्ति 1051.2

## ध्रिलर (अं)

रोमाच कथा 450.6

## धी-धी

सिनेमा परदा सूची 606.5

## धी-धीलर (अं)

त्रिवक्र यान 1070.4

## धीड (अं)

उच्चक्रिल रेखा 968.15

## धीशर

धीशर 563.4 ⇨

## धीशर (अं)

धीशर 563.4

## द

## दंग

आश्चर्यित 379.8

## दंगई

उपद्रवकारी 903.17

ऊधमी 294.32

कलहप्रिय 708.13

नटखट 860.27

## दंगल

अव्यवस्थित समूह 690.4

कुश्ती मैदान 482.11

गदा 593.39

## दंगल मारना

जीतना 912.12

दंगली	राजा 882.6	दंडाश्रम	दंत मंजन
पहलवान 486.2	सेनापति 935.1	संन्यास आश्रम 233.6	दंत मंजन 221.5 ⇨
प्रतियोगी 707.9	दंड नीति	दंडिका	दंत मज्जन
योद्धा 934.15	दंड नीति 819.6 ⇨	छड़ी 923.3	दंत मार्जन 221.4
दंगबारा	दंडनीय	दंडित	दंत मल
कृषि सहयोग सूची 553.28	दंडनीय 870.22 ⇨	दंडित 870.21 ⇨	दंत मल 215.10 ⇨
दंगा	दंडपाणि	दंडित करना	दंत मल 215.11 ⇨
उपद्रव 903.1	लाठीधारी 930.17	दंड देना 870.16	दंत मार्जन
दंगा क्रसाद	दंड पात्र	दंडी	दंत मार्जन 221.4 ⇨
उपद्रव 903.1	दंडनीय 870.22	नाविक 1080.21	दंत रंजन
दंगेबाज़	दंडपाल	पुलिस कर्मी 886.3	दंत रंजन 225.26 ⇨
उपद्रवकारी 903.17	राजा 882.6	यमराज 256.1	दंत रंजक
दंगैत	लाठीधारी 930.17	राजा 882.6	मिस्सी 225.27
उपद्रवकारी 903.17	सेनापति 935.1	लाठीधारी 930.17	दंत विषयक
दंड	दंड पाशिक	संन्यासी 790.11	दंतीय 144.15
कमानघा 461.93	जल्लाद 871.17	दंडीत	दंतवेष्ट
डंड 485.9	दंड प्रणाम	दंडवत 1060.7	मसूदा 144.10
डंडा 923.5	दंड प्रयोग	दंडक	दंत शर्करा
तराजू डंडा 962.21	दंड नीति 819.6	दंडनीय 870.22	दंत मल 215.11
दंड 870.1 ⇨	दंड बैठक	दंत	दंतहीन
दंड नीति 819.6	डंड बैठक 485.8	उच्चारण स्थान सूची 411.10	अदंतुरित 144.17
दमन 911.4	दंड मंच	दंत	दंतहीन चुबलाई
ध्वज दंड 408.5	फौसी तख्ता 871.12	पठार 16.2	पपोल 181.22
नीति चतुष्टय सूची 819.3	दंडमुक्त	दंतक	दंताघात
मंथनः दंड 554.14	क्षमाप्राप्त 872.12	दीवारः खूँटी 1016.17	दंत प्रहार 918.10
मस्तूल 1073.11	दंडमुक्ति	पर्यंत शिखर 16.11	दंतापुष
राजदंड 408.14	क्षमा 872.1	दंतकथा	सूअर 127.81
लाठी 923.9	दंड यात्रा	लोक कथा 450.7	दंताल
सेना 932.1	दिग्विजय यात्रा 907.27	दंतकाण्ड	हाथी 127.38
दंडक	दंडवत	दातीन 221.8	दंतालय
ध्वज दंड 408.5	दंडवत 1060.7 ⇨	दंत किट्ट	मुख विवर 143.1
दंड काण्ड	साष्टांग दंडवत 1060.8	दंत मल 215.11	दंतावली
डंडा 923.5	दंड संहिता	दंतमल	दंतावली 144.9 ⇨
दंड ग्रहण	दंड संहिता	अर्जित दूरय सूची 463.28	दंतिल
संन्यास प्रवेश 233.8	दंड स्वरूप त्रिल	दंरुषाक	उदंती (जंतु) 144.19
दंडबारी	दंड स्वरूप त्रिल 1083.7 ⇨	गीयर व्हील 1077.30	दंती
सेनापति 935.1	दंड स्वरूप मारण	दंत चर्मा	उदंती (जंतु) 144.19
दंड तासन	वध 251.3	दंत रंजन 225.26	गणेश 773.22
वेत्र दंड 870.6	दंडहस्त	दंत चर्वण	हाथी 127.38
दंडताम्री	लाठीधारी 930.17	चर्वण 181.13	दंतीधान
जल तरंग 461.36	दंडादंडि	दंतच्छद	गीयर बीक्स 1077.29
दंड दाता	लट्ठम लट्ठा 905.24	ओष्ठ 143.2	दंतीय
दंड दाता 870.23 ⇨	दंडादेश	दंत दंश	दंतीय 144.15 ⇨
दंड दे कर रहना	दंडादेश 870.2 ⇨	दंत प्रहार 918.10	दंतीला [दंतीली]
क्षमा न करना 873.7	दंडाधिकारी	दंत पंक्ति	दंदानेदार 970.14
दंड देना	दंडनीय 870.22	दंतावली 144.9	दंती वील
दंड देना 870.16 ⇨	दंडाधिप	दंतपाली	वालरस 124.11
दंडधर	स्थानीय शासक 891.2	मसूदा 144.10	दंतुर
लाठीधारी 930.17	दंडाधिपता	दंत पेषण	असमतल 987.6
शासक 890.5	स्थानीय शासन 891.1	चर्वण 181.13	दंदानेदार 970.14
दंडधारी	दंडानीक	दंत प्रहार	प्रोद्गत 988.10
लाठीधारी 930.17	दस्ता 932.24	दंत प्रहार 918.10 ⇨	दंतुर चक्र
दंड न देना	दंडार	दंत प्रहार करना	गीयर व्हील 1077.30
क्षमा करना 872.6	चाक 559.15	दंत प्रहार करना 918.24 ⇨	दंतुरण
दंडना	धनुष 926.8	दंत प्रहार कर्ता	दंतुरण 144.2 ⇨
दंड देना 870.16	नौका 1072.2	दंत प्रहार कर्ता 918.36 ⇨	दंतुरण होना
दंडनायक	रथ 1071.46	दंत पुच्छा	दंतुरण होना 144.14 ⇨
न्यायाधीश 874.15		दृष्य 221.7	

## दंतुरित

### दंतुरित

दंतुरित 144.16 ⇨

### दंतुरिया

दंतुरिया 144.3 ⇨

### दंतुल

उदती (जंतु) 144.19

### दंतुलिया

दंतुरिया 144.3

### दंतुली

दंतुरिया 144.3

### दंतील

उदती (जंतु) 144.19

### दंतोद्वय

दतुरण 144.2

### दंतोच्छ्वर्ण

उच्चारण स्थानानुसार वर्ण सूची 411.11

### दंत्य

दंतीय 144.15

### दंत्य वर्ण

उच्चारण स्थानानुसार वर्ण सूची 411.11

### दंत्येष्ट

दौवपेच 819.11

### दंबान

दौत 144.1

### दंबाना

दंदाना 970.11 ⇨

### दंबाने

गरारी दौता 1077.38

### दंबानेदार

दंदानेदार 970.14 ⇨

### दंबाक

छाला 167.9

### दंबासा

दवास 225.24 ⇨

### दंबुम (म्र)

पादपाठ 77.4

### दंपति (अशुद्ध) (प्रचलित)

दंपती 803.4

### दंपती

दंपती 803.4 ⇨

### दंपती संबंध

दोपत्य संबंध 803.2

### दंभ

दर्प 858.5

दानव सूची 783.13

पाखंड 825.2

### दंभ करना

दर्प करना 858.9

### दंभपूर्णता

दर्पिता 858.6

### दंभहीन

दर्पहीन 859.8

### दंभहीनता

दर्पहीनता 859.3

### दंभ हीना

दर्प करना 858.9

### दंभिता

दर्पिता 858.6

1080

सुरुधिमन्यता 400.7

### दंभी

दर्पी 858.13

धर्म पाखंडी 825.4

सुरुधिमन्यक 400.21

### दंभोली

इंद्र वज्र 928.8

हीरा 96.28

### दैंवरी

दैंवरी 548.21 ⇨

### दैंवरी करना

दैंवरी करना 548.40 ⇨

### दैंवरी यंत्र

ध्रैशर 563.4

### दंश

ईर्ष्या 709.1

कटाक्ष 844.3

डंक 144.12

उक दश 918.13

दौत 144.1

रत्न दोष 98.2

### दंशाक

डौंस 122.27

दत प्रहार कर्ता 918.36

दौत 144.1

मच्छर 122.38

### दंशान

दंशान 181.21 ⇨

### दंशान करना

उक मारना 918.25

दौत गड़ना 181.35

### दंश प्रहार कर्ता

दंत प्रहार कर्ता 918.36

### दंशित

दंशित 181.65 ⇨

### दंशी

कटाक्ष कर्ता 844.14

डँसने वाला 918.37

दत प्रहार कर्ता 918.36

### दंशोर

डँसने वाला 918.37

### दंष्ट्र

दौत 144.1

### दंष्ट्राविष

विषधर सर्प 123.14

### दंष्ट्रिका

दाढ़ 144.7

### दंष्ट्री

सूअर 127.81

### दइया

प्रारब्ध 260.1

हाय 386.12

### दई

प्रारब्ध 260.1

हाय 386.12

दईमारा [दईमारी]

दुर्भाग्यशाली 260.34

### दकन

दक्षिण भारत 28.4

### दकनी

दक्षिणी 29.31

दकार्गल  
कूप जल संधान 19.18

### दक्रियानूस

रुद्रिवादी 343.24

### दक्रियानूसी

रुद्रिवादी 343.24

### दककन

आंध्र प्रदेश 28.13

दक्षिण 29.10

दक्षिण भारत 28.4

### दककन का पठार

भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17.1

### दककनी

दक्षिण भारतीय 28.76

### दककाक

कुटाई कर्ता 540.17

### दकखनी

दक्षिणी 29.31

### दकखिन

दक्षिण 29.10

दक्षिण भारत 28.4

### दक्ष

ईमानदार 815.7

दक्ष 787.7 ⇨

दक्षिण पार्श्वीय 997.21

प्रथम पुरुष मान्यता सूची 236.14

प्रवीण 303.22

विश्वेदेव सूची 777.10

### दक्ष कन्या

दक्ष पुत्री 787.3

### दक्षजा

दक्ष पुत्री 787.3

दुर्गा 776.7

सती 776.16

### दक्षजा पति

शिव 767.1

### दक्ष जामाता

शिव 767.1

### दक्ष सनया

दक्ष पुत्री 787.3

### दक्षता

प्रवीणता 303.8

विशेषज्ञता 305.17

### दक्षः पुत्री

दक्ष पुत्री 787.3 ⇨

### दक्ष पुत्री

दाक्षायणी 774.44

देवसेना 774.47

ही 775.7

### दक्ष प्रजापति

दक्ष 787.2

दक्षः मानस पुत्री

दक्षः मानस पुत्री 787.F ⇨

### दक्ष यज्ञ ध्वंसी

रुद्र 767.34

शिव 767.1

शिव गण 767.31

### दक्ष विषयक

दक्षीय 787.30

### दक्ष सावर्णि मनु

मनु सूची 788.4

दक्ष-सावित्रीः पुत्री

दैत्यसेना 774.48

### दक्ष सुता

दक्ष पुत्री 787.3

नक्षत्र 4.5

सती 776.16

### दक्षारि

शिव 767.1

### दक्षिण

अनुकूल 885.37

आठ दिशा सूची 29.6

ईमानदार 815.7

चार दिशा सूची 29.5

दक्षिण 29.10 ⇨

दक्षिण पार्श्व 997.7

दक्षिण पार्श्वीय 997.21

दक्षिण भारत 28.4

### दक्षिण अग्नि

यज्ञाग्नि सूची 106.5

### दक्षिण अयनांत

दक्षिण अयनांत 5.21 ⇨

### दक्षिण एशिया

दक्षिण एशिया 27.2 ⇨

भारत उपमहाद्वीप 27.5

### दक्षिण का जादू

दक्षिण का जादू 474.4 ⇨

### दक्षिण गमन

दक्षिणायन 5.18

### दक्षिण घालन

राइटहैंड ड्राइविंग 1067.7

### दक्षिण ध्रुव

दक्षिण ध्रुव 10.12 ⇨

### दक्षिण ध्रुव तारा

दक्षिण ध्रुव तारा 3.13 ⇨

### दक्षिण ध्रुव महाद्वीप

महाद्वीप सूची 26.5

### दक्षिण ध्रुव महासागर

दक्षिण ध्रुव महासागर 24.16 ⇨

### दक्षिण पंथ

प्रतिक्रियावाद 884.17

### दक्षिण पवन

दक्षिण पवन 85.20 ⇨

### दक्षिण पश्चिम

आठ दिशा सूची 29.6

दक्षिण पश्चिम 29.16 ⇨

### दक्षिण पश्चिमा

दक्षिण पश्चिम 29.16

### दक्षिण पार्श्व

दक्षिण पार्श्व 997.7 ⇨



- दक्षिण पार्श्वीय**  
दक्षिण पार्श्वीय 997.21 ⇨
- दक्षिण पूर्व**  
आठ दिशा सूची 29 6  
दक्षिण पूर्व 29 17 ⇨
- दक्षिण पूर्वा**  
दक्षिण पूर्व 29 17
- दक्षिण भारत**  
दक्षिण भारत 28 4 ⇨
- दक्षिण भारतीय**  
दक्षिण भारतीय 28 76 ⇨
- दक्षिण भारतीय संगीत**  
कर्णाटकी संगीत 457 12
- दक्षिण वाम**  
दक्षिण वाम 997.20 ⇨
- दक्षिण वाम पार्श्व**  
दक्षिण वाम पार्श्व 997 6 ⇨
- दक्षिण वाम पार्श्व में**  
दक्षिण वाम पार्श्व में 997 24 ⇨
- दक्षिण सूर्य**  
दक्षिणायन 5 18
- दक्षिणा**  
उपहार 640 2  
दक्षिण 29 10  
दक्षिणा 640.6 ⇨  
दहेज 802 4  
दान 641 1
- दक्षिणाचल**  
मलयाचल 17 13
- दक्षिणात्य**  
दक्षिण भारतीय 28 76  
नारियल 13 11
- दक्षिणापथ**  
दक्षिण भारत 28 4
- दक्षिणाभिमुख**  
अनुघटी 1033 21
- दक्षिणायन**  
दक्षिणायन 5 18 ⇨
- दक्षिणावर्त**  
दक्षिणावर्त शंख 461 79
- दक्षिणावर्तन**  
अनुघटी परिक्रमा 1033.5
- दक्षिणावर्त शंख**  
दक्षिणावर्त शंख 461 79 ⇨
- दक्षिणावर्ती**  
अनुघटी 1033 21
- दक्षिणाशा**  
दक्षिण 29 10
- दक्षिणी**  
दक्षिण पार्श्वीय 997 21  
दक्षिण भारतीय 28 76  
दक्षिणी 29.31 ⇨
- दक्षिणी गोलार्ध**  
दक्षिणी भूगोलार्ध 10 6
- दक्षिणी तारा मंडल**  
देव्यसेना 774.48
- दक्षिणी भूगोलार्ध**  
दक्षिणी भूगोलार्ध 10.6 ⇨
- दक्षिणेतार**  
वाम पार्श्वीय 997 22
- दक्षिणोन्मुख**  
अनुघटी 1033.21
- दक्षिस्थ**  
सारथी 1079 10
- दक्षीय**  
दक्षीय 787 30 ⇨
- दक्षेस**  
दक्षेस 27 3 ⇨
- दक्षेसः सदस्य सूची**  
दक्षेस सदस्य सूची 27.4 ⇨
- दखन**  
दक्षिण 29.10  
दक्षिण भारत 28 4
- दखनी मिर्च**  
काली मिर्च 278 4  
सफ़ेद मिर्च 278 8
- दख्खमा**  
पारसी श्मशान 254 15
- दखलंदाज़**  
अधिग्रहण कर्ता 635 17  
हस्तक्षेप कर्ता 1047 30
- दखलंदाज़ी**  
हस्तक्षेप 1047 13
- दखल**  
अधिकार 897 1  
अधिग्रहण 635 1  
आधिपत्य 899 8  
आवास आधिपत्य 622 8  
पैठ 1094 14
- दखलदार**  
आधिपत्यधारी 899 9  
आवास आधिपत्यधारी 622 9
- दखलदारी**  
आधिपत्य 899 8  
आवास आधिपत्य 622 8
- दखल देना**  
हस्तक्षेप करना 1047.20
- दखील**  
अधिग्रहण कर्ता 635 17  
आधिपत्यधारी 899 9
- दगढ़**  
नगाड़ा 461 58
- दागगा**  
भय 395 1
- दगधना**  
उत्पीडित करना 391 20
- दगन**  
विस्फोट 544.8
- दगना**  
दग्ध होना 108.9
- दगरा**  
पगडंडी 1063.47
- दगला**  
लबादा 585 19
- दगडा**  
शवदाह कर्ता 253.37
- दगहा [दगही]**  
तप्त चिह्नित 407 24  
लाघित 843.23
- दगा**  
कृतघ्नता 833 4  
छल 827 7  
विश्वासघात 827 4
- दगा [दगी]**  
तप्त चिह्नित 407 24
- दगाई**  
विस्फोटन 544 9  
विस्फोट प्रणोदन 1051 5
- दगाऊ**  
विस्फोटक 544 11
- दगाबाज़**  
कृतघ्न 833 11  
छली 827 24  
विश्वासघाती 827 19
- दागाबाज़ी**  
कृतघ्नता 833 4  
विश्वासघात 827 4
- दगार्गल**  
कूप जल सधान 19 18
- दगील**  
छली 827 24  
तप्त चिह्नित 407 24  
लाघित 843 23
- दग्ध**  
उत्पीडित 391 28  
तप्त चिह्नित 407 24  
दग्ध 108 13 ⇨  
पूर्ण दग्ध 108 16  
प्रवीण 303 22  
न-नियमित 391 26
- दग्ध (धातु)**  
दग्ध (धातु) 108 17 ⇨
- दग्धक**  
दग्धक 108 15 ⇨
- दग्धरथ**  
चित्ररथ 778 6
- दग्ध होना**  
दग्ध होना 108.9 ⇨
- दग्धा**  
दग्धक 108 15
- दक्षक**  
ठेस 1051 17  
दक्षका 1051 18  
दक्षक 989 3
- दक्षकना**  
दक्षकना 989 7
- दक्षका**  
ठोकर 1084 10  
दक्षका 1051 18 ⇨
- दक्षका [दक्षकी]**  
नतोदर 989 9
- दक्षका स्त्रिग**  
दक्षका स्त्रिग 1050.22 ⇨
- दक्षिना**  
दक्षिणा 640 6
- दक्षबा**  
दक्षबा 803 14
- दक्षियल**  
दक्षियल 136.8 ⇨
- दक्षवन**  
दातीन 221 8
- दक्षुअन**  
दातीन 221 8
- दक्षुवन**  
दातीन 221 8
- दक्षीन**  
दातीन 221 8
- दक्ष**  
घटा प्रविष्टि 632.6  
दान दत्त 641.23  
प्रदत्त 638 14
- दक्षक**  
दक्षक 716 20 ⇨  
दक्षक पुत्र 716 6
- दक्षकता**  
दक्षकता 716.4 ⇨
- दक्षक पुत्र**  
दक्षक पुत्र 716.6 ⇨
- दक्षक पुत्री**  
दक्षक पुत्री 716.7 ⇨
- दक्षक बनना**  
दक्षक बनना 716.14 ⇨
- दक्षक बनाना**  
दक्षक बनाना 716 13 ⇨
- दक्षक संस्कार**  
दक्षक संस्कार 716 5 ⇨
- दक्षकित**  
ध्यानमग्न 331.11  
सावधान 497.4
- दक्षकितता**  
तल्लीनता 331 6  
सावधानी 497.1
- दक्षम (प्र)**  
कंप्यूटर डाटा 951.25
- दक्षाय**  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
विष्णु चौबीस अवतार सूची 769.9
- दक्षाय आराधक**  
कार्तवीर्य 769 31
- दक्षायधान**  
ध्यानमग्न 331 11
- दक्षायधानता**  
तल्लीनता 331.6
- दक्षिया**  
दक्षिया 722.47 ⇨
- दक्षिया सक्षुर**  
दादसरा 724 8
- दक्षिया क्षास**  
दादस 724.9
- दक्षिहाल**  
दक्षिहाल 601.5 ⇨

## दहा

### दबा

दादा 722.5  
 दबा आई 723.9  
**दड्ड**  
 दाद 165.4  
**दड्डक**  
 दाद 165.4  
**दध**  
 दान दाता 641.24  
**दधि**  
 दही 193.9  
**दधि घट**  
 दही घडा 679.10  
**दधियानी**  
 दही घडा 679.10  
**दधिनूख**  
 वानर सूची 781.7  
**दधिशोण**  
 वानर (मरुत) 781.5  
**दधि सागर**  
 सप्त सागर सूची 24.22  
**दधीधि**  
 ऋषि मुनि सूची 789.17  
**दधीधि अस्थि**  
 इंद्र वज्र 928.8  
**दधीध्यास्थि**  
 हीरा 96.28  
**दधीय**  
 दधीय 193.18 ⇨  
**दध्य**  
 दधीय 193.18  
**दनवन**  
 दनदनाहट 297.29  
**दनवनाहट**  
 दनदनाहट 297.29 ⇨  
**दन से**  
 शीघ्रतः 496.13  
**दनावन**  
 अशिरामत 1049.16  
 शीघ्रतः 496.13  
**दनायु**  
 दनायु 787.14 ⇨  
**दनायुबा**  
 असुर स्त्री सूची 783.9  
 दनायु 787.14  
**दनु**  
 दनु 787.15 ⇨  
**दनुज**  
 दानव 783.11  
 राक्षस सूची 784.4  
**दनुजा**  
 दानव स्त्री 783.12  
**दनुजारि**  
 देवता 772.1  
**दनुर्जित**  
 रावण 784.12  
 हिरण्य कशिपु 769.25

### दनुजेश

रावण 784.12  
 हिरण्य कशिपु 769.25  
**दनु संतति**  
 दानव 783.11  
**दनुवरट**  
 डाइनोसौर 123.9  
**दन्नाहट**  
 दनदनाहट 297.29  
**दपट**  
 डॉट 373.11  
**दपटना**  
 डॉटना 373.25  
**दफ़न**  
 दफ़नाई 253.12  
 दफ़नाया [दफ़नाई] 253.38  
 निखनन (गढ़ाई) 1018.3  
 निखनित 1018.17  
**दफ़न करना**  
 दफ़न करना 253.32 ⇨  
**दफ़नाई**  
 दफ़नाई 253.12 ⇨  
**दफ़नाना**  
 दफ़न करना 253.32  
**दफ़नाया [दफ़नाई]**  
 दफ़नाया [दफ़नाई] 253.38 ⇨  
**दफ़ा**  
 आवृत्ति 71.1  
 नियम धारा 879.2  
 बारी 70.8  
**दफ़ा 144**  
 निषेधाज्ञा 880.3  
**दफ़ा करना**  
 चलता करना 1092.13  
**दफ़तर**  
 कार्यालय 654.3  
 दीवान खाना 614.17  
 पुलिदा 674.8  
 सचिवालय 654.12  
**दफ़तर खाना**  
 अभिलेखागार 669.10  
**दफ़तरी**  
 जिल्दसाज़ 418.11  
**दफ़तरी खाना**  
 जिल्दसाज़ी शाला 418.12  
**दफ़तरी बस्ता**  
 ब्रीफ़केस 673.8  
**दफ़ती**  
 गता 415.12  
**दफ़नगाह**  
 क़ब्रिस्तान 254.16  
**दबंग**  
 प्रतापशाली 849.19  
 हेकड़ीबाज़ 734.23  
**दबंगता**  
 हेकड़ी 734.10  
**दबक**  
 दबक 989.3 ⇨

### नतोदरता 989.1

**दबकगर**  
 वरक़ बनाने वाला 545.8  
**दबकगरी**  
 वरक़ बनाई 545.7  
**दबकन**  
 दबक 989.3  
 नतोदरता 989.1  
**दबकना**  
 आघात वर्धित करना 545.23  
 दबकना 989.7 ⇨  
 प्रच्छन्न होना 824.18  
**दबका [दबकी]**  
 कुटा [कुटी] 986.10  
 दबका [दबकी] 989.11 ⇨  
 नतोदर 989.9  
**दबकैया**  
 वरक़ बनाने वाला 545.8  
**दबते रहना**  
 अत्याचार सहना 835.7  
**दबदबा**  
 आतंक 395.5  
 ख्याति 847.1  
 प्रताप 849.5  
**दबदबे वाला**  
 प्रतापशाली 849.19  
**दबन**  
 दबाई 989.5  
 नतोदरता 989.1  
 पीछे हटना कर्म 916.6  
 संकुचन 980.9  
**दबनशील**  
 नम्य 1050.32  
**दबनशीलता**  
 नम्यता 1050.16  
**दबना**  
 अत्याचार सहना 835.7  
 गुप्त होना 824.13  
 दबकना 989.7  
 नतोदर होना 989.6  
 पीछे हटना 916.15  
 प्रशमित होना 372.6  
 लज्जित होना 845.6  
 संकुचित होना 980.15  
**दबा [दबी]**  
 अतिभारग्रस्त 963.15  
 अवनमित 1025.8  
 अस्पष्ट 823.11  
 कुटा [कुटी] 986.10  
 गढ़ा [गड़ी] 1016.46  
 दबका [दबकी] 989.11  
 दमित 911.14  
 नतोदर 989.9  
 निखनित 1018.17  
 निष्कर्षित 83.14  
 प्रशमित 372.10  
 भूमिगत 824.23  
 वशाधीन 901.9

### संकुचित 980.26

**दबाई**  
 कुटाई 986.6  
 गढ़ाई 1016.4  
 दबाई 989.5 ⇨  
 निखनन (गढ़ाई) 1018.3  
 निष्कर्षण 83.1  
 रीदाई 541.4  
**दबा कर रखना**  
 खोद कर गाड़ना 1018.13  
 गाड़ कर रखना 645.6  
**दबाना**  
 खोद कर गाड़ना 1018.13  
 गाड़ कर रखना 645.6  
 गोपन करना 824.14  
 दबाना 989.8 ⇨  
 दबोचना 868.31  
 दमन करना 911.8  
 निष्कर्षित करना 83.11  
 पकड़ना 868.30  
 भुगतान न करना 639.11  
 मर्दन करना 911.6  
 रहस्य न खोलना 823.10  
 रींदना 541.8  
 संकुचित करना 980.16  
**दबाने वाला**  
 दबाने वाला 989.12 ⇨  
**दबापन**  
 नतोदरता 989.1  
 भारग्रस्तता 963.6  
**दबाव**  
 स्वरघात 411.8  
**दबा रंग**  
 अप्रस्फुटित रंग 289.28  
**दबा लेना**  
 दमन करना 911.8  
**दबाव**  
 दबाई 989.5  
 दाब 989.4  
 भारग्रस्तता 963.6  
 वश 899.13  
**दबाव में**  
 विवशत 901.13  
**दबा स्वर**  
 मिच्चा कंठ 459.37  
**दबे पाँव**  
 गुप्ततः 824.29  
 ध्वनिहीनतः 295.6  
**दबील**  
 अत्याचार सहन कर्ता 835.14  
**दबीलपन**  
 दम्यता 518.11  
**दबोच**  
 दबोच 868.6 ⇨  
**दबोचना**  
 दबोचना 868.31 ⇨  
**दबोचने वाला**  
 दबोचने वाला 868.37 ⇨

**दबोचू**  
दबोचने वाला 868.37

**दबोलि**  
दर्भ घास 11.9

**दब्बू**  
अत्याचार सहन कर्ता 835 14

**दब्बूपन**  
दम्ब्यता 518.11

**दब्र**  
अल्पतम 942 15

**दम**  
उत्साह 491 1  
कश 213 15  
काल 36.1  
क्षमता 487 7  
छल 827 7  
दमन 911 4  
दम भाजी 201 17  
दर्प 858.5  
धर्म लक्षण सूची 737 29  
धार 270 7  
पल 50 14  
प्राण तत्त्व 245.1  
शक्ति 487 1  
शारीरिक बल 160 2  
श्वास 245 4

**दम उखाड़ना**  
हॉफना 245 22

**दमक**  
अग दीप्ति 157 6  
चमक दमक 287 23  
दीप्ति 287 16  
वैभव 226 5

**दमकता [दमकली]**  
आलोकित 295 45  
वैभवशाली 226 15

**दमकना**  
आलोकित होना 285.38  
दम्ब होना 108.9

**दमकल**  
दमकल 108.8 ⇨

**दमकाई**  
उज्ज्वलन 218 10

**दमकाना**  
उज्ज्वल करना 218.32

**दमकीला [दमकीली]**  
आलोकित 285.45

**दीप्तांग** 157.11

**दमकलम**  
उत्साह 491.1  
साहस 394 1

**दम घुटन**  
श्वासावरोध मृत्यु 249.8

**दम घुटना**  
श्वासावरोध होना 245 18

**दमघाँदू**  
श्वासावरोधक 245.26

**दम घुराना**  
सौंस साधना 245 19

**दमझौंसा**  
चकमा 819.9

**दमझी**  
मिथ्या सांत्वना 393 6

**दमझी**  
दमझी 629.15 ⇨

**दमधु**  
दमन 911 4

**दमदमा**  
कोलाहल 294 8  
दमडम 296 11  
तोप ध्वनि 296 20  
दिखावा 825 1  
परकोटा- कमर दीवार 604.17  
बालू बोरी प्राचीर 604 18  
बैटरी 932 29

**दमदार**  
उत्साहपूर्ण 491 9  
बलिष्ठ 160 10  
शक्तिशाली 487 20

**दमन**  
अत्याचार 835.3  
इंद्रिय निग्रह 364.4  
दंड नीति 819 6  
दमन 911 4 ⇨

**दमन और दीव राजधानी** 28.39  
दाब 989 4  
नादिर शाही 884 3  
वध 251.3

**दमन**  
वध कर्ता 251 27

**दमन और दीव**  
दमन और दीव 28 38 ⇨

**दमन और दीव: राजधानी**  
दमन और दीव राजधानी 28.39 ⇨

**दममक**  
दमन कर्ता 911 15

**दमन करना**  
दमन करना 911 8 ⇨  
पददलित करना 911 9

**दमन कर्ता**  
अत्याचारी 835 13  
दमन कर्ता 911.15 ⇨

**दमनकारिता**  
नादिर शाही 884 3

**दमन वीथ**  
दमन और दीव 28.38

**दमना**  
दहाना 989.8

**दम निकलना**  
बहुत थकना 492 11  
मरना 249 18

**दमनीय**  
दम्ब्य 518.23

**दमनीयता**  
दम्ब्यता 518.11

**दम पकवान**  
प्रेरार कुकिंग 185 37

**दमपट्टी**  
चकमा 819 9

**दमपुझा**  
दम भाजी 201.17

**दम फूलना**  
हॉफना 245 22

**दमबाज़**  
चकमेबाज़ 819 18

**दमबाज़ी**  
चकमेबाज़ी 819.10

**दमबुला**  
चकमा 819.9

**दम भरना**  
गर्वोक्ति करना 842 7  
दर्प करना 858 9

**दम भाजी**  
दम भाजी 201 17 ⇨

**दमधिता**  
दंड दाता 870 23  
दमन कर्ता 911 15  
शिव 767 1

**दम रुकना**  
श्वासावरोध होना 245 18

**दम लगाना**  
कश लगाना 213 30

**दमसाज़**  
दमसाज़ 460 26 ⇨

**दमसाज़ी**  
दमसाज़ी 460 25 ⇨

**दम साधे**  
ध्वनिहीनतः 295.6

**दमहीन**  
अबलिष्ठ 159.12  
हॉफता [हॉफती] 245.28

**दम होना**  
सौंस चलना 245 17

**दमा**  
दमा 163 18 ⇨

**दमाध**  
दामाद 724.22

**दमाधम**  
अविरामत 1049 16  
शीघ्रतः 496 13

**दमामा**  
नगाडा 461.58

**दमित**  
गहन प्रभावित 511.15  
दमित 911.14 ⇨  
पराजित 913 5

**दमित आकांक्षा**  
दमित आकांक्षा 352.11 ⇨

**दमित करना**  
दमन करना 911.8

**दमी**  
घरसिया 212.16  
नैवा 213.12

**दम्ब**  
दम्ब्य 518.23 ⇨

**दम्ब्यता**  
दम्ब्यता 518.11 ⇨

**दबीहत्थापन**  
दबीहत्थापन 487.12 ⇨

**दयनीय**  
दयनीय 834.16 ⇨

**दयनीयता**  
दयनीयता 834.7 ⇨

**दया**  
करुण रस 455 13  
क्षमादान 872.2  
दया 774.43 ⇨  
दया 834.1 ⇨

**दया (दे.)**  
उपकार 832.1  
सहानुभूति 393.3

**दया आना**  
दया आना 834.9 ⇨

**दयाकर**  
दयालु 834 12  
शिव 767 1

**दया करना**  
दया करना 834 8 ⇨

**दयाकूट**  
गीतम बुद्ध 793.1

**दयादान**  
वर प्रदान 714 2

**दया दृष्टि**  
दया दृष्टि 834.3 ⇨

**दया द्रवण**  
दया द्रवण 834.5 ⇨

**दया प्रवित**  
दयार्द्र 834.14

**दयानेव निर्वाण विवस**  
दीवाली 57.15

**दया न आना**  
दया न आना 835.5 ⇨

**दयान्तदार**  
ईमानदार 815.7

**दयान्तदारी**  
ईमानदारी 815.2

**दया निदान**  
दयालु 834 12

**दयानिधि**  
दयालु 834 12

**दयापात्र**  
दयापात्र 834.17 ⇨

**दया पात्रता**  
दयनीयता 834.7

**दयापूर्ण**  
दयापूर्ण 834.11 ⇨

**दयापूर्वक**  
दयापूर्वक 834.18 ⇨

**दया भार**  
कृतज्ञता 833.1

## दया भाव

दया भाव  
दया दृष्टि 834.3  
दयामय  
ईश्वर 764.1  
दयालु 834.12  
दया याचना करना  
दया याचना करना 834.10 ⇨  
दयार  
काष्ठ सूची 597.2  
देवदार 13.10  
दयार्द्र  
दयार्द्र 834.14 ⇨  
दयार्द्रता  
दया द्रवण 834.5  
दयाल  
दयालु 834.12  
दयालु  
दयालु 834.12 ⇨  
दानी 641.27  
दयालुता  
दयालुता 834.4 ⇨  
दानीत्व 641.2  
दयावंत [दयावंती]  
दयालु 834.12  
दयावान [दयावती]  
दयालु 834.12  
दयाशील  
दयालु 834.12  
दया सागर  
दयालु 834.12  
दयारिधि  
दयालु 834.12  
दया से  
दयापूर्वक 834.18  
सहायता से 700.28  
दयाहीन  
निर्दय 835.10  
दयाहीनता  
निर्दयता 835.2  
दयित  
प्रेमपात्र 369.4  
दयित [दयिता]  
मनोवाञ्छित 359.27  
दयिता  
पत्नी 803.6  
प्रेमपात्रा 369.5  
प्रेमिका 368.3  
दयोत्पादक  
दयनीय 834.16  
दयोत्पादकता  
दयनीयता 834.7  
दर  
अंदर 999.17  
कमरा 614.1  
चीखट 609.1  
दर 947.10 ⇨  
द्वार 608.1  
फाटक 608.9

मूल्य 664.1  
दरअसल  
सत्यत 820.25  
दरक  
विदर 544.4  
दरकन  
तड़कन 544.5  
विदरण 544.2  
दरकना  
तड़कना 544.14  
धेंसना 1031.19  
दरका  
विदर 544.4  
दरका [दरकी]  
तड़का [तड़की] 544.20  
दरकार  
आवरयक 524.20  
दरकिनार  
विलगत 1011.7  
दरकल  
वृक्ष 111.18  
दरकलास्त  
प्रार्थना 350.4  
फरियाद 350.9  
याधिका 875.15  
दरगाह  
इसलामी मठ 745.9  
चीखट अधोकाष्ठ 609.3  
मज़ार 255.8  
मसजिद 745.17  
रोज़ा 745.19  
दरगुज़र  
अनवलोकित 284.49  
उपेक्षित 185.7  
विलगत 1011.7  
दरगुज़ारी  
अनवलोकन 284.2  
क्षमादान 872.2  
दरज  
विदर 544.4  
दरजी  
दर्जी 577.3  
दरण  
विदरण 544.2  
दरत  
बौध 22.2  
दरथ  
युद्ध पलायन 916.5  
दरद  
बौध 22.2  
दर दर जाना  
मिक्षाटन करना 642.16  
दर दर भटकना  
मिक्षाटन करना 642.16  
दरदरा [दरदरी]  
दरदरा [दरदरी] 540.18 ⇨  
मोटा [मोटी] 965.12

दरदरा आटा  
रवा 192.8  
दरदराई  
दरदराई 540.4 ⇨  
दरदराना  
दरदराना: 540.12 ⇨  
दरपन  
दर्पण 283.13  
दरपना  
दर्प करना 858.9  
दरपरदा  
आड़ में 605.17  
गुप्तत: 824.29  
दरपेश  
उपस्थित 1021.9  
समक्ष 1021.8  
दरपेश सवाल  
समस्या 333.11  
दरपेशी  
उपस्थिति 1021.2  
दरबंदी  
सीदेबाज़ी 658.6  
दरब  
खरा चाँदी सोना 95.2  
दरबदार  
घतुर्दिशत 29.36  
दरबा  
दरबा 603.14 ⇨  
मुरगी खाना 555.5  
स्टोरेज बिन 671.24  
दरबान  
द्वार: पहरेदार 908.13  
दरबार  
दरबार भवन 695.8  
दीवान खाना 614.17  
राज दरबार 889.14  
सभा 694.1  
सिख गुरुद्वारा 745.28  
दरबारदार  
घाटुकार 841.35  
दरबार सदस्य 889.15  
दरबारदारी  
घाटुकारिता 841.17  
दरबार भवन  
दरबार भवन 695.8 ⇨  
दरबार सदस्य  
दरबार सदस्य 889.15 ⇨  
दरबारी  
दरबार सदस्य 889.15  
दरबारी सलाम  
कोरनिश 1060.6  
दरबारे आम  
दरबारे आम 695.9 ⇨  
दरबारे ख़ास  
दरबारे ख़ास 695.10 ⇨  
मंत्रणा कक्ष 614.15  
दरभन  
चिकित्सन 171.8

दरमाहा  
मासिक 43.22  
दरमियाना  
मध्यम 978.6  
सामान्य 311.3  
दरमियाना [दरमियानी]  
औसत राशीय 947.25  
मध्यावर्ती 996.7  
दरमियानी  
आंतरिक 999.12  
दरम्यान  
अंतराल 33.9  
अंदर 999.17  
कार्य मध्य मे 996.9  
पर्यंत 39.12  
मध्य भाग 996.3  
दरया  
समुद्र 24.1  
दररना  
तड़कना 544.14  
नष्ट करना 531.5  
दरवाज़ा  
कपाट 609.5  
द्वार 608.1  
दरवाज़ा: घंटी  
दरवाज़ा: घंटी 461.33 ⇨  
दरवेश  
इसलामी साधु 790.23  
भिक्षुक 642.5  
दरशाना  
प्रदर्शित करना 285.36  
व्याख्या करना 427.22  
दरस  
ईश्वर दर्शन 749.36  
दरसना  
दृश्य होना 282.15  
देखना 284.30  
दरसाना  
प्रदर्शित करना 285.36  
दर से  
दर से 947.30 ⇨  
दर हक़ीक़त  
सत्यत 820.25  
दरीती  
दरती 561.10 ⇨  
हेंसिया 563.7  
दरा  
कमरा 614.1  
दालान 615.5  
द्वार 608.1  
दराज़  
अत्यधिक 944.7  
खाना 671.20  
दराज़ 671.22 ⇨  
बृहत् 979.15  
लंबाई युक्त 985.10  
विस्तीर्ण 981.10

<b>दरार</b>	<b>दरियाबाग</b>	<b>दर्जा</b>	<b>दर्प करना</b>
एकता भंग 699 2	दानवीर 641 28	कोटि 936 1	दर्प करना 858.9 ⇨
विदर 544.4	<b>दरियाब</b>	खाना 671 20	<b>दर्पघ्न</b>
विदरण 544.2	नदी 20.1	दराज 671 22	अभिमान मर्दक 911 13
<b>दरारबाग</b>	<b>दरी</b>	पदवी 652 1	<b>दर्पण</b>
तड़का [तड़की] 544 20	कापुरुष 395 29	शिक्षालय कक्षा 321 13	दर्पण 283 13 ⇨
<b>दरारा</b>	गुहा 15.9	श्रेणी 322 25	दर्पण लगी अँगुठी 228.3
प्रहार प्रतिप्रहार 918.3	तहखाना 612 2	<b>दर्जाबंद</b>	दर्पण लगी अँगुठी
<b>दरिंदा</b>	दरी 593 51 ⇨	कोटिकृत 936.13	दर्पण लगी अँगुठी 228.3 ⇨
हिंसक 251 31	विदारक 544 19	<b>दर्जाबंदी</b>	<b>दर्पपूर्णता</b>
हिंस जीव 121 14	<b>दरीघा</b>	कोटिकरण 936 5	दर्पिता 858.6
<b>दरित</b>	खिड़की 608.17	<b>दर्जिन</b>	<b>दर्प भंग</b>
तड़का [तड़की] 544 20	छोटा द्वार 608 13	घरखी 126.35	अभिमान भंग 911.3
<b>दरिद्र</b>	पोल 271 17	<b>दर्जी</b>	दर्पहंता
निर्धन 627 20	<b>दरीबा</b>	दर्जी 577 3	अभिमान मर्दक 911 13
<b>दरिद्रण</b>	बाज़ार 663.1	<b>दर्जी</b>	दर्पहर
निर्धनीकरण 627 9	<b>दरेंद्र</b>	दर्जी 577.3 ⇨	अभिमान मर्दक 911.13
<b>दरिद्रता</b>	विष्णु शख 768 13	<b>दर्जीगीरी</b>	दर्प हरण
निर्धनता 627 5	<b>दरेग</b>	सिलाई 577.1	अभिमान मर्दन 911 2
मलिनता 217 1	भूल 498 3	<b>दर्जी: टेप</b>	<b>दर्पहर्ता</b>
<b>दरिद्र नारायण</b>	<b>दरे दीलत</b>	दर्जी टेप 959 7 ⇨	अभिमान मर्दक 911 13
निर्धन जन 627 6	शोता गृह 601 3	<b>दर्जी: धैली</b>	<b>दर्पहा</b>
<b>दरिद्रा</b>	<b>दरेर</b>	दर्जी धैली 673 15 ⇨	शिव 767.1
दरिद्रा 775 6 ⇨	विदर 544 4	<b>दर्द</b>	<b>दर्पहीन</b>
<b>दरिद्रा (दे.)</b>	<b>दरेरना</b>	दया 834 1	दर्पहीन 959.8 ⇨
निष्प्रति 774.51	धकेलना 1051 28	दुःख 391 1	<b>दर्पहीनता</b>
<b>दरिद्रित</b>	<b>दरेरा</b>	दुःखगाथा 391 4	दर्पहीनता 859.3 ⇨
कगाल 627.21	तीव्र जल प्रवाह 21 10	शारीरिक पीड़ा 392 4	<b>दर्पिता</b>
सकटग्रस्त 909 19	धक्का 1051 13	शोक 383 1	दर्पिता 858.6 ⇨
<b>दरिद्रीयन</b>	प्रहार प्रतिप्रहार 918 3	सहानुभूति 393 3	श्रेष्ठ ग्रथि 352 7
निर्धनीकरण 627 9	रगड़ 167 11	<b>दर्दनाक</b>	<b>दर्पी</b>
<b>दरिया</b>	<b>दरेसी</b>	मनोव्यथाकारी 391 27	दर्पी 858.13 ⇨
नदी 20 1	समतलन 986 2	<b>दर्दभंद</b>	<b>दर्पीक्ति</b>
<b>दरियाई</b>	<b>दरेसी करना</b>	कोमलहृदय 834 15	गर्वाक्ति 842.2
ताफ्ला 580 24	समतल करना 986 8	पीड़ाग्रस्त 392 28	<b>दर्भ</b>
समुद्रीय 24 23	<b>दरोगा</b>	सहानुभूति कर्ता 393.19	घास 11 6
<b>दरियाई घोड़ा</b>	असत्य 821 1	<b>दर्दर</b>	दर्भ घास 11.9
दरियाई घोड़ा 127 85 ⇨	<b>दरोगा</b>	पर्यत 16 3	<b>दर्भ घास</b>
<b>दरियादिल</b>	थानेदार 866 9	<b>दर्दी</b>	दर्भ घास 11.9 ⇨
दानवीर 641 28	<b>दर्ज</b>	कोमलहृदय 834 15	<b>दर्घाए शौर</b>
विशालहृदय 817 11	अरा 960 12	दुःखपूर्ण 391 23	बंगाल की खाड़ी 24.18
<b>दरियादिली</b>	<b>दर्जन</b>	सहानुभूति कर्ता 393.19	<b>दर्घाबा</b>
दानीत्व 641 2	दराज 671 22	<b>दर्दीला [दर्दीली]</b>	छोटी नदी 20.4
विशाल हृदयता 817 5	<b>दर्ज</b>	दुःखपूर्ण 391.23	<b>दर्दा</b>
<b>दरियाप्रप्त</b>	प्रविष्टिकृत 412 50	मनोव्यथाकारी 391 27	घाटी 18.16
तथ्यान्वेषण 336 1	लिपिबद्ध 412 44	शोकपूर्ण 383 7	दराज 671 22
तथ्यान्वेषित 336 23	लेखाकृत 632.39	<b>दर्दुर</b>	दर्दा 18.15 ⇨
परिज्ञात 305 32	लेखा प्रविष्टि 632 5	मेदक 124 2	रवा 192.8
प्रश्नित 333 23	<b>दर्ज</b>	<b>दर्द दिल</b>	विदर 544.4
<b>दरियाप्रप्त करना</b>	विदर 544 4	मनोव्यथा 391 7	<b>दर्द</b>
पूछना 333 19	<b>दर्ज करना</b>	<b>दर्दू</b>	भाड़ कलछा 681.4
<b>दरियाप्रप्तगी</b>	प्रविष्टि करना 412.42	दाद 185.4	सर्प फण 140.3
पूछा 333.2	लेखा प्रविष्टि करना 632.36	<b>दर्प</b>	हिंस जीव 121 14
<b>दरिया बरामद</b>	<b>दर्जन</b>	दर्प 858.5 ⇨	<b>दर्बट</b>
नदी परित्यक्त भूमि 25.5	द्वादश लव प्रणाली 950.7	हेकड़ी 734 10	पहरेदार 908.9
<b>दरिया बरार</b>	बारह 948.42	<b>दर्पक</b>	<b>दर्बी</b>
नदी परित्यक्त भूमि 25.5	बारह उपमान सूची 948 43	दर्पी 858 13	फणघर सर्प 123.13
	बारह समुदाय 687.13		भाड़ कलछा 681 4

## दर्वीघर

### दर्शन

- कोबरा 123.19  
**दर्शक**  
 अवलोकक 284.48  
 दर्शक 399.4 ⇨  
 दर्शनार्थी 749.38  
**दर्शक अलिव**  
 दर्शक अलिव 471.5 ⇨  
**दर्शक गण**  
 कला उपभोक्ता गण 399.3  
**दर्शक वीधा**  
 दर्शक वीधा 471.4 ⇨  
**दर्शक प्रतीक्षालय**  
 दर्शक प्रतीक्षालय 471.3 ⇨  
**दर्शक: बालकनी**  
 दर्शक: बालकनी 471.7 ⇨  
**दर्शक: बौक्स**  
 दर्शक: बौक्स 471.6 ⇨  
**दर्शक सनाज**  
 कला उपभोक्ता गण 399.3  
**दर्शकागार**  
 प्रेक्षागार 471.1  
**दर्शन**  
 अवलोकन 284.1  
 ईश्वर दर्शन 749.38  
 छह: उपमान सूची 948.28  
 धल दर्शन 1080.11  
 दर्शन शास्त्र 760.1  
 वार्षिक प्रणाली 760.4  
 धर्म 735.1  
 प्रकटन 822.7  
 प्रत्यक्ष अवलोकन 284.3  
 मंट 436.4  
 विवेचन 427.14  
**दर्शन अभिलाषी**  
 दर्शनभिलाषी 1056.10  
**दर्शन इच्छुक**  
 दर्शनार्थी 749.38  
**दर्शन करना**  
 तीर्थ यात्रा करना 1089.11  
 दर्शन करना 749.48 ⇨  
**दर्शन गवाक्ष**  
 सम्राट गवाक्ष 608.16  
**दर्शन देना**  
 दर्शन देना 749.49 ⇨  
 शुभागमन करना 1093.7  
**दर्शन प्रदान**  
 शुभागमन 1093.2  
**दर्शन शास्त्र**  
 दर्शन शास्त्र 760.1 ⇨  
**दर्शन शास्त्री**  
 धर्म शिक्षक 742.21  
**दर्शनभिलाषी**  
 दर्शनभिलाषी 1056.10 ⇨  
 दर्शनार्थी 749.38  
**दर्शनभिलाषी [दर्शनभिलाषिणी]**  
 प्रतीक्षक 1057.10

### दर्शनार्थी

- तीर्थ यात्री 1089.2  
 दर्शनार्थी 749.38 ⇨  
 मंट इच्छुक 436.12  
**दर्शनी**  
 मोगदेय 834.30  
**दर्शनीय**  
 दर्शनीय 400.13 ⇨  
 प्रदर्शनीय 285.43  
 सुंदर 157.7  
 सुडील 155.4  
**दर्शनीयता**  
 सुडीलता 155.2  
**दर्शनीय दृश्य**  
 मनोरंजक दृश्य 312.7  
**दर्शनीय स्थान**  
 पर्यटन स्थल 1090.8  
**दर्शनी हुंडी**  
 हुंडी 633.16  
**दर्शापिता**  
 प्रदर्शक 285.44  
 मार्ग प्रदर्शक 1098.4  
**दर्शित**  
 अभिव्यक्त 428.17  
 प्रकट 822.27  
 प्रदर्शित 285.42  
 सिद्ध 877.22  
**दर्शित्र**  
 दृष्टि उपकरण 283.1  
**दर्शित्र (प्र)**  
 कंप्यूटर मॉनिटर 606.7  
**दर्शी**  
 दर्शक 399.4  
 विवेचक 427.31  
 स्लाइड 405.12  
**दल**  
 कर्मचारी समूह 652.28  
 खंड 938.1  
 गुट 885.9  
 दल 691.1 ⇨  
 दस्ता 932.24  
 पैदाई 938.26  
 पक्ष 885.3  
 पत्तर 990.23  
 पलटन 932.26  
 पल्लव 115.1  
 पुष्प. पल्लव 115.7  
 फौक 938.29  
 मंडली 691.5  
 यात्री दल 1088.5  
 राजनीतिक दल 885.15  
 सेना 932.1  
**दल असंबद्धता**  
 निर्दलीयता 887.5  
**दल उद्गम**  
 दल उद्गम 1081.15 ⇨  
**दलक**  
 टीस 392.13

- दलने वाला 540.20  
 पददलन कर्ता 911.17  
 पल्लव 115.1  
 मर्दन कर्ता 911.11  
 विदर 544.4  
**दलकना**  
 उगमगाना 1084.35  
 तड़कना 544.14  
**दल कर्म**  
 दल कर्म 700.5 ⇨  
**दल कर्मी**  
 दल कर्मी 700.24 ⇨  
**दलगतता**  
 दलीयता 885.17  
**दलघर**  
 दलघर 696.12 ⇨  
**दलघर्या**  
 दलघर्या 696.11 ⇨  
**दलध्वज**  
 सेनापति 935.1  
**दलबल**  
 कीचड़ 214.2  
 दलदल 25.28 ⇨  
**दलदल (दे.)**  
 मिट्टी गारा 100.9  
**दलदल कर्षण**  
 दलदल कर्षण 1051.10 ⇨  
**दलदल सैन**  
 मीथेन 86.9  
**दलदल ज्योति**  
 बड़वा दीप्ति 287.18  
**दलदल: नीका कर्षण**  
 उथला जल नीका कर्षण 1080.5  
**दलदलाहट**  
 फिसलाहट 1084.14  
**दलदली**  
 दलदली 25.34 ⇨  
 फिसलन युक्त 1084.47  
**दलदली भूमि**  
 खादर 552.5  
**दलन**  
 दलन 540.5 ⇨  
 पददलन 911.5  
 मर्दन 911.1  
**दलनहार [दलनहारन]**  
 दलने वाला 540.20  
**दलनहारा [दलनहारी]**  
 दलने वाला 540.20  
**दलसना**  
 दमन करना 911.8  
 दलना 540.13 ⇨  
 मर्दन करना 911.6  
 रौदना 541.8  
**दल नायक**  
 दल नायक 852.6 ⇨  
**दल नायकता**  
 दल नायकता 852.5 ⇨

- दल नायकी**  
 दल नायकता 852.5  
**दल निष्ठा**  
 दलीयता 885.17  
**दलने वाला**  
 दलने वाला 540.20 ⇨  
**दलप**  
 दल नायक 852.6  
 सेनापति 935.1  
**दलपत**  
 दल नायक 852.6  
**दलपति**  
 दल नायक 852.6  
 सेनापति 935.1  
**दलपतित्व**  
 दल नायकता 852.5  
**दल परिवर्तन**  
 दल बदल 885.18  
**दल परिवर्तनशीलता**  
 दल बदलूपन 885.19  
**दलबंदी**  
 गुटबंदी 885.10  
 दलीयता 885.17  
**दल बदल**  
 दल बदल 885.18 ⇨  
**दल बदलना**  
 अवसरवादी होना 827.12  
**दल बदलुआ**  
 दल बदलू 885.20  
**दल बदलू**  
 दल बदलू 885.20 ⇨  
**दल बदलूपन**  
 दल बदलूपन 885.19 ⇨  
**दलबद्ध**  
 गुटबद्ध 885.38  
**दल बना कर रहना**  
 दल में रहना 696.20  
**दलबल**  
 दलबल 691.2 ⇨  
 सेना 932.1  
**दलबल सहित**  
 दलबल सहित 691.8 ⇨  
**दलबाज़**  
 गुटबाज़ 885.39  
**दल बादल**  
 मेघ समूह 55.2  
**दलभलना**  
 मसलना 541.6  
**दल में रहना**  
 दल में रहना 696.20 ⇨  
**दल यात्रा**  
 दल यात्रा 1088.4 ⇨  
**दलवास**  
 दलघर्या 696.11  
**दलवास करना**  
 दल में रहना 696.20  
**दलवासी**  
 दलघर 696.12

- दलबैया**  
दलने वाला 540.20
- दल संघलन**  
परेड 1083.8  
मार्च 1083 11
- दल संबद्धता**  
दलीयता 885 17
- दल सदस्यता**  
दलीयता 885 17
- दल सम्बन्धन**  
दलीयता 885 17
- दलहन**  
दलहन 188.1 ⇨  
परचून सूची 186 9
- दलहन (दे.)**  
अनाज सूची 187 6
- दलहन सूची**  
दलहन सूची 188 7 ⇨
- दलहीन**  
अपक्षधर 887 9  
असैन्य 932 36
- दलहीनता**  
अपक्षधरता 887 1
- दला [दली]**  
दला [दली] 540.19 ⇨
- दलाई**  
दलन 540.5
- दलाई लामा**  
दलाई लामा 744.42 ⇨
- दलाबक**  
घक्रवात 85 10  
दल नायक 852 6  
फेन 88.15  
शिरिष 13.21
- दलारा**  
जाली झूला 1034 4
- दलाल**  
दलाल 659 2 ⇨  
प्रतिनिधि सूची 888 27  
वेश्या दलाल 807.9
- दलाल शुल्क**  
दलाल शुल्क 659 5 ⇨
- दलाल संस्थान**  
दलाल संस्थान 659 4 ⇨
- दलाली**  
दलाल शुल्क 659 5  
दलाली 659.1 ⇨
- दलाली करना**  
दलाली करना 659 15 ⇨
- दलित**  
दला [दली] 540 19  
पददलित 911 16  
पराजित 913.5  
शोषित 627.24
- दलितधर**  
दरिद्रा 776.6  
मलिनता 217.1
- दलिया**  
दला [दली] 540.19  
दलिया 192.2 ⇨  
दलिया 202.8 ⇨
- दली**  
पल्लवयुक्त 115.13  
वृक्ष 111 18
- दली दाल**  
दली दाल 188.2 ⇨
- दलीप**  
दल नायक 852.6  
सेनापति 935 1
- दलीपता**  
दल नायकता 852 5
- दलीय**  
दलीय 691 7 ⇨  
पक्ष विषयक 885 26  
सामूहिक 690 13
- दलीयता**  
दलीयता 885 17 ⇨
- दलील**  
तर्क 325 1  
वाद विवाद 324 3
- दलील पेश करना**  
तर्क करना 325 18
- दलीलबाज़**  
वित्तंडावादी 324 27
- दलीलबाज़ी करना**  
वित्तंडा करना 324.20
- दली सामुत बाल: भाजी और भूजी**  
पकी दाल 201 12
- दलेल**  
दड स्वरूप झिल 1083 7
- दल्म**  
पहिया 1077 1
- दल्मि**  
इंद्र वज्र 928 8
- दल्सा**  
दलाल 659 2  
वेश्या दलाल 807 9
- दब**  
अग्नि 106 1
- दबा**  
उपाय 517 3  
औषध 176 1  
गुरु 517.4  
युक्ति 517.1
- दबाई**  
औषध 176.1
- दबा का पर्चा**  
औषध पत्र 171.10
- दबा की गोली**  
वटी 176.25
- दबाखाना**  
अस्पताल 175.5
- दबाखाना**  
औषधालय 175.2
- दबाखाना**  
चिकित्सालय 175.1
- दबागि**  
दाया दीप्ति 287 17
- दबाघर**  
औषध दुकान 175.9
- दबात**  
दवात 416.26 ⇨  
दवातदान 416.20
- दबातदान**  
दवातदान 416.20 ⇨
- दबातदानी**  
दवातदान 416.20
- दबादाफ**  
औषध 176 1  
चिकित्सा 171 1
- दबा क्रोश**  
औषध विक्रेता 175 8
- दबाबाज़**  
अनाड़ी चिकित्सक 171 14
- दश**  
दस 948 38
- दशकंठ**  
रावण 784 12
- दशकंठारि**  
राम 770.1
- दशकंधर**  
रावण 784 12
- दशक**  
दशक 42.22 ⇨  
दस समुदाय 687 12
- दश कोटिक**  
दस करोड़ 948 78
- दशकोण**  
दशभुज 969 12
- दशग्रीव**  
रावण 784.12
- दशान**  
दशान 181.21  
दौत 144.1
- दशान्वसनगराग**  
धोसठ कला सूची 397 4
- दशपारमिताधर**  
गीतम बुद्ध 793 1
- दशबल**  
गीतम बुद्ध 793 1
- दशाबाहु**  
शिव 767 1
- दशभुज**  
दशभुज 969.12 ⇨
- दशभुजा**  
दुर्गा 776.7
- दशभुमीश**  
गीतम बुद्ध 793.1
- दशम**  
दसवीं [दसवीं] 948.96
- दशम त्व**  
दशम त्व 950.6 ⇨
- दशमांश**  
949.22  
दशम त्व 950.6  
दशम त्व (बांछनीय)  
दशम त्व 950 6  
दशम त्व प्रणाली  
दशम त्व प्रणाली 950.5 ⇨
- दशमांश**  
दशमांश 949.22 ⇨
- दशमांश भोगी पावरी**  
रेक्टर 744 35
- दशमांशिक**  
दशमांशिक 949.41 ⇨
- दशमी**  
दशमी 44.16 ⇨  
दशहरा 57 9
- दशमुख**  
रावण 784 12
- दशमेरा**  
गोविंद सिंह 794 3
- दशरथ**  
दशरथ 770.33 ⇨  
राम पिता 770.2
- दशरथ कुमार**  
राम 770 1
- दशरथ: पत्नी सूची**  
दशरथ: पत्नी सूची 770.34 ⇨
- दशरथ: पितामह**  
रघु 770.46
- दशरथ: पुत्र सूची**  
दशरथ: पुत्र सूची 770.35 ⇨
- दशरथ: पुत्री**  
दशरथ: पुत्री 770.36 ⇨
- दशरथ: मंत्री**  
सुमंत्र 770 70
- दशरथ: राजधानी**  
दशरथ: राजधानी 770.38 ⇨
- दशरथ: राज्य**  
दशरथ: राज्य 770.37 ⇨
- दश तक्ष**  
दस लाख 948.76
- दशवदन**  
रावण 784 12
- दशरिार**  
रावण 784.12
- दशसीरा**  
रावण 784.12
- दश सहस्र**  
दस हजार 948.74
- दशहरा**  
दशहरा 57.9 ⇨
- दशहरा उत्सव समूह सूची**  
दशहरा उत्सव समूह सूची 57.10 ⇨
- दशा**  
ग्रहदशा 281.21  
चित्त अवस्था 355.1  
परिस्थिति 69.5  
भाग्य 280.14

## दशानन

स्वास्थ्य दशा 181.2  
दशानन  
रावण 784.12  
दशानुकूलन  
आरंभिक अभ्यास 303.6  
दशाब्द  
दशक 42.22  
दशाब्दि  
दशक 42.22  
दशा धें  
परिस्थिति मे 89.14  
दशार्थ  
पौंच 948.25  
दशाई  
गीतम बुद्ध 793.1  
विष्णु 768.1  
दशावतार  
विष्णु दस अवतार 769.7  
दष्ट  
दंशित 181.65  
दस  
दस 948.38 ⇨  
दसः समुदाय 687.12  
दस अरब  
दस अरब 948.80 ⇨  
दसः उपमान सूची  
दसः उपमान सूची 948.39 ⇨  
दस और उस से ऊपर संख्या  
नवींतर संख्या 948.37  
दस करोड़  
दस करोड़ 948.78 ⇨  
दस खरब  
दस खरब 948.82 ⇨  
दसठीन  
दसूटन 798.13  
दसदश आयाम  
तीन आयाम 964.9  
दसदशता  
त्रिआयामता 964.11  
दस दिशा  
तीन आयाम 964.9  
दस दिशा सूची  
दस दिशा सूची 29.7 ⇨  
दस हारे का पीजरा  
शरीर 139.1  
दस नंबरी  
अति कुटिल 818.8  
दस नी आठ सात आदि  
विपरीत गणना 950.2  
दस मात्राः ताल  
अपताल 458.47  
दसमी  
दशमी 44.16  
दस लाख  
दस लाख 948.76 ⇨  
दसवीं [दसवीं]  
दसवीं [दसवीं] 948.96 ⇨

दसवीं द्वार  
ब्रह्मरंभ 138.4  
दसवीं भाग  
दशमांश 949.22  
दसः समुदाय  
दस समुदाय 687.12 ⇨  
दस हज़ार  
दस हज़ार 948.74 ⇨  
दस हज़ार स्थान 948.12  
दस हज़ारः स्थान  
दस हज़ारः स्थान 948.12 ⇨  
दसहरी  
आम सूची 190.10  
दसारी  
कारंभव 126.19  
दसास्पता  
दसास्पता 948.35 ⇨  
दसाल्प संख्या  
दसाल्प संख्या 948.36 ⇨  
दसी  
पलाय. छोर 586.25  
दसूटन  
दसूटन 798.13 ⇨  
दसूती  
दसूती 580.26 ⇨  
दसूती कढ़ाई 577.19  
दोतही चादर 593.24  
दसूती कढ़ाई  
दसूती कढ़ाई 577.19 ⇨  
दसूती की कढ़ाई  
क्रौंस स्टिच 572.10  
दसों दिश  
घतुर्दिशतः 29.36  
दस्तबाज़  
हस्तक्षेप कर्ता 1047.30  
दस्तबाज़ी  
हस्तक्षेप 1047.13  
दस्त  
दस्त 216.12 ⇨  
पतली विष्ठा 216.4  
पाणि 150.1  
बालिशत 150.5  
हस्त 149.2  
दस्तक  
दस्तक 296.5 ⇨  
दस्तकार  
शिल्पकार 557.10  
दस्तकारी  
हस्त शिल्प 557.9  
दस्त क़ै  
हैज़ा 215.28  
दस्तक़त  
हस्ताक्षर 444.8  
दस्तक़ली  
हस्ताक्षरित 444.37  
दस्तगीर  
आधार दाता 1019.20

दस्त बरबारी  
स्वत्व परिस्थाग 622.18  
दस्तयाब  
उपलब्ध 943.9  
प्राप्त 637.8  
दस्तयाबी  
उपलब्धता 943.1  
प्राप्ति 637.2  
दस्तारक़मान  
डाइनिंग टेबल 595.35  
दस्तारक़मान  
भोजन पटल 194.10  
दस्ता  
गुच्छ 686.17  
दौबीसः समुदाय 687.15  
जस्ता 94.5  
डंडा 923.5  
दौलिया 221.16  
दल 691.1  
दस्ता 932.24 ⇨  
पुष गुच्छ 12.34  
बरतन हत्था 680.29  
मंडली 691.5  
मूठ 596.24  
हथेली कवच 921.11  
हस्ताभ्रय 596.23  
दस्ताना  
दस्ताना 588.2 ⇨  
हथेली कवच 921.11  
दस्ताबेज़  
अनुबंध पत्र 339.2  
दस्ताबेज़  
अभिलेख 412.18  
दस्ताबेज़  
आलेख 412.17  
दस्ताबेज़ 412.19 ⇨  
प्राचीन हस्तलिपि 77.11  
बंधक पत्र 633.25  
भूमि धारण पत्र 553.10  
दस्ताबेज़ लिखना  
दस्ताबेज़ लिखना 412.41 ⇨  
दस्ताबेज़ लिखित  
दस्ताबेज़ लिखित 412.49 ⇨  
दस्ताबेज़ लेखक  
दस्ताबेज़ लेखक 412.24 ⇨  
दस्ताबेज़ लेखक  
दस्ताबेज़ लेखक 412.24  
दस्ताबेज़ लेखन  
दस्ताबेज़ लेखन 412.23 ⇨  
दस्ताबेज़ी काग़ज़  
दस्ताबेज़ी काग़ज़ 412.22 ⇨  
दस्ती  
गहरी 1083.27  
तलवारः मूठ 924.11  
बरतनः हत्था 680.29  
मशाल 285.9  
हस्तीय 149.19

दस्तूर  
कार्य विधि 514.1  
दस्तूर 744.38 ⇨  
परिपाटी 514.9  
प्रथा 795.9  
विधि (क़ानून) 878.1  
दस्तूर से  
पारंपरिकतः 795.17  
दस्तूरी  
अधि वेतन 643.27  
इलाल शुल्क 659.5  
नेग 640.7  
रिश्वत 865.9  
दस्म  
यजमान 743.6  
दस्यु  
चोर 864.3  
उकैत 864.20  
बटमार 864.34  
दस्युता  
चौर्य वृत्ति 864.1  
उकैती वृत्ति 864.18  
दस्यु वृत्ति  
उकैती वृत्ति 864.18  
दस्युहा  
इंद्र 773.5  
दस्सा  
दस समुदाय 687.12  
दस्सी  
दसः समुदाय 687.12  
दह  
अग्नि ज्वाला 106.8  
दस 948.38  
नितल गड्डा 985.12  
हौज़ 18.14  
दहकता [दहकती]  
अति उष्ण 104.20  
उदीप्त (अग्नि) 107.14  
दहकन  
अग्नि वर्धन 107.3  
दहकना  
अग्नि उदीप्त होना 107.11  
अति क्रुद्ध होना 373.16  
दग्ध होना 108.9  
दहक़ान  
कृषक 548.2  
ग्रामवासी 616.22  
दहक़ाना  
अग्नि उदीप्त करना 107.12  
दहक़ानी  
ग्राम्यतापूर्ण 734.18  
दहन  
अग्नि 108.1  
दहन 108.1 ⇨  
दाह उत्कीर्णन 406.23  
विस्फोट प्रगोदन 1051.5  
शवदाह 253.4



**दहन प्रिया**  
स्वाहा 774 104  
**दहनशील**  
दहनशील 108 14 ⇨  
**दहन सारथी**  
वायु 85 1  
**दहना**  
अग्नि उद्दीप्त होना 107 11  
दग्ध होना 108 9  
**दहनोपल**  
आतशी शीरा 283 7  
**दहर**  
नितल गड्ढा 985 12  
भाई 723 4  
वरुण 773 43  
**दहराकाश**  
निर्गुण ब्रह्म 764 28  
**दहल**  
भय कंपन 395 2  
**दहलता [दहलती]**  
भय कपित 395 20  
**दहलना**  
आतकित होना 395 16  
भय कपित होना 395 14  
**दहलीज़**  
गृह 601 1  
घोखट अधोकाष्ठ 609 3  
मुख्य द्वार 608 7  
श्रोता गृह 601 3  
**दहशत**  
आतक 395 5  
**दहाई**  
दहाई स्थान 948 9  
धाई 475 30  
**दहाई: स्थान**  
दहाई स्थान 948 9 ⇨  
**दहाक**  
आर्तनाद 386 3  
घोर ध्वनि 294.6  
दहाड़ 298 22 ⇨  
युद्धनाद 907 15  
**दहाकना**  
घोर ध्वनि करना 294 17  
**दहाक मारना**  
आर्तनाद करना 386 17  
**दहाना**  
डेल्टा 21.24  
नुक्कड़ 1064.8  
मुख विवर 143.1  
**दही**  
दही 193.9 ⇨  
**दही गोस्त**  
दही गोस्त 206.32 ⇨  
**दही घड़ा**  
दही घड़ा 679.10 ⇨  
**दही जमाई**  
दही जमाई 554.10 ⇨

**दही जमाई द्रव्य**  
दही जमाई द्रव्य 554.11 ⇨  
**दही जमाना**  
दही जमाना 554.20 ⇨  
**दही पात्र**  
अथरी 679 42  
**दही: रायता**  
रायता 201 7  
**दहैगर**  
दही घड़ा 679.10  
**दहैकी**  
दही घड़ा 679 10  
**दहेज**  
दहेज 802 4 ⇨  
**दहेज विवाह**  
ब्राह्म विवाह 799 27  
**दहेकी**  
मथन पात्र 554 13  
**दहेला [दहेली]**  
मनोव्यथित 391 26  
**दह्य**  
दहनशील 108 14  
**दह**  
अग्नि 106 1  
**-दौ**  
ज्ञानी 305 30  
**दौ**  
विद्वान 319 8  
**दांडिक**  
दंड दाता 870 23  
**दौत**  
ददाना 970 11  
**दात**  
दमित 911 14  
दम्य 518.23  
**दौत**  
दौत 144 1 ⇨  
बत्तीस उपमान सूची 948.61  
**दौत आना**  
दंतुरण होना 144.14  
**दौत काटी रोटी**  
घनिष्ठता 704 13  
**दौत खट्टे करना**  
जीतना 912 12  
**दौत गकाई**  
दंशन 181 21  
**दौत गकाना**  
दौत गकाना 181.35 ⇨  
**दौत चलाना**  
कुतरना 181 36  
**दौत दिखाना**  
घुड़कना 373.20  
**दौत निकलना**  
दंतुरण होना 144.14  
**दौत निकालना**  
गिड़गिड़ाना 350.13  
**दौत निचोरना**  
गिड़गिड़ाना 350 13

हंसना 384 7  
**दौत: पपकी**  
दंत मल 215 11  
**दौत फूटना**  
दतुरण होना 144 14  
**दौत बजना**  
ठितुरना 105 18  
**दौत मारना**  
दंत प्रहार करना 918.24  
**दौत: मेल**  
दंत मल 215 10  
**दौत से काट कर खाना: कर्म**  
भक्षण 181 10  
**दौत से काटना: कर्म**  
कुतरन 181 12  
**दौता**  
गीयर 1077 28  
तीव्र नदी 20 6  
ददाना 970 11  
**दाति**  
तपस्या 756 21  
**दौती**  
दंतावली 144.9  
नीका बंधन खूँटा 1073 18  
हंसिया 563 7  
**दौते**  
गरारी दौता 1077 38  
गीयर 1077.28  
**दौतेदार**  
ददानेदार 970 14  
**दौना**  
दँवरी करना 548 40  
**दांपत्य**  
दांपत्य संबध 803 2  
**दांपत्य अधिकार**  
दांपत्य अधिकार 803.3 ⇨  
**दांपत्य जीवन**  
गृहस्थ आश्रम 235 1  
**दांपत्य त्याग**  
दांपत्य परित्याग 804 2  
**दांपत्य परित्याग**  
दांपत्य परित्याग 804.2 ⇨  
**दांपत्य परित्याग करना**  
दांपत्य परित्याग करना 804.20 ⇨  
**दांपत्य भंग**  
दांपत्य भंग 804.1 ⇨  
**दांपत्य भग्नात्ता**  
दांपत्य भंग 804.1  
**दांपत्य बिच्छेद**  
दांपत्य बिच्छेद 804.6 ⇨  
**दांपत्य संग**  
दांपत्य संग 803.1 ⇨  
**दांपत्य संबंध**  
दांपत्य संबंध 803.2 ⇨  
**दाँई**  
दँवरी 548.21  
**दाँई**  
अवसर 70.1

दौब 481.17  
पारी 70 9  
**दाँब**  
घात प्रतीक्षा 914 1  
चुनौती 917 1  
दाँब 481.17 ⇨  
पारी 70.9  
पैतरा 486 20  
**दाँब चलना**  
घूत खेलना 481 21  
**दाँबना**  
दँवरी करना 548.40  
**दाँब पर लगा**  
दाँब पर लगा 481.25 ⇨  
**दाँब पर लगाना**  
दाँब पर लगाना 481.24 ⇨  
**दाँबपेच**  
कुश्ती दाँबपेच 486 18  
कूटनीति 819 1  
दाँबपेच 819 11 ⇨  
**दाँबपेच करना**  
कूटनीति प्रयोग करना 819 12  
दाँबपेच करना 819.15 ⇨  
**दाँबपेच कर्ता**  
दाँबबाज़ 819 19  
**दाँबपेच लगाना**  
दाँबपेच करना 819 15  
**दाँबपेच कुश्ती**  
हनुमती कुश्ती 486 11  
**दाँबबाज़**  
कूटनीतिज्ञ 819 16  
दाँबबाज़ 819.19 ⇨  
पैतरबाज़ 486.28  
**दाँब रखना**  
दाँब लगाना 481 23  
**दाँवरी**  
रस्ती 570.5  
**दाँब लगा [दाँब लगी]**  
दाँब पर लगा 481 25  
**दाँब लगा कर**  
दाँब लगा कर 481.26 ⇨  
**दाँब लगाना**  
दाँब पर लगाना 481.24  
दाँब लगाना 481.23 ⇨  
घूत खेलना 481 21  
भाग्य परीक्षा करना 260 23  
**दाँब: वस्तु**  
दाँब वस्तु 481.18 ⇨  
**दाँई**  
पारी 70 9  
**दाँई**  
दाँई 244.6 ⇨  
धाय नौ 720 2  
**दाँई (ई.)**  
प्रसूति कर्म 244 5  
**दाँईगीरी**  
प्रसूति कर्म 244.4

## दाऊ

### दाऊ

बका भाई 723.9  
बलराम 771 74

### दाऊद

पेगाबर सूची 791 2

### दाएँ

दाहिने 1098.30

### दाएँ बाएँ

पार्श्वघरत 696 28

### दाश

दक्षीय 787 30

### दाक्षायणी

अदिति 787 7

दक्ष पुत्री 787 3

दाक्षायणी 774.44 ⇨

दाक्षायणी 787 4 ⇨

दुर्गा 776 7

नक्षत्र 4 5

सती 776 16

### दाक्षिण

दक्षिणी 29 31

### दाक्षिण्य

अनुकूलता 885.8

### दाक्षी

दक्ष. पुत्री 787 3

### दाख

अंगूर 190 3

किशमिश 191 5

मुनक्का 191 11

### दाखिल

आप्रवेशित 1002 22

प्रविष्ट 1094.24

समाविष्ट 1002 21

### दाखिल करना

प्रविष्ट करना 1094 19

### दाखिल होना

आधिपत्य करना 899 19

प्रवेश करना 1094 17

### दाखिला

आप्रवेश 1002 2

दीक्षा 321 5

प्रवेश 1094 1

### दाखिला देना

प्रवेश देना 1094 18

### दाग

चिह्न 407 1

### दाग

तप्त चिह्न 407 6

### दागा

तप्त चिह्न 407.6

दुर्गुण 314 4

धब्बा 217 2

लांछन 843 7

### दाग

विस्फोटन 544 9

विस्फोट प्रणोदन 1051 5

### दागादार

धब्बेदार 217 7

1090

### दागाधब्बे

कुलेख उपमान सूची 412 13

### दागना

आग जलाना 107 10

तप्त चिह्नित करना 407.22

विस्फोट करना 544 10

विस्फोट प्रणोदित करना 1051.21

शवदाह करना 253 31

शस्त्र चलाना 930 5

### दाग निकालना

स्वच्छ करना 218 24

### दागा [दागी]

तप्त चिह्नित 407 24

### दागी

दडित 870 21

दुर्गुणी 314 8

लांछित 843 23

### दागीब (सिंहली)

रूप अस्थिपात्र 255 12

### दाघ

ग्रीष्म. अनुभूति 53 7

ग्रीष्म काल 53 6

ताप 103 1

### दाज

दहेज 802 4

### दाटा

कैटवाक 1065 4

### दाङ्गिम

अनार 190 5

### दाङ्गिम प्रिय

तोता 126 44

### दाङ्ग

दाङ्ग 144 7 ⇨

### दाङ्ग से पीसना

घबाना 181 38

### दाङ्गी

जटा 112 17

ठोड़ी 140 20

दाङ्गी 136.3 ⇨

### दाङ्गीदार

दकियल 136 8

### दाङ्गी पट्टी

दाङ्गी पट्टी 584.28 ⇨

### दाङ्गी मूँछ

दाङ्गी मूँछ 136.1 ⇨

### दाङ्गी मूँछ हीन

दाङ्गी मूँछ हीन 136 9 ⇨

### दाङ्गीपुक्त

दकियल 136 8

### दाङ्गी वाला गिद्ध

जटायु गिद्ध 126.28

### दात

दान वस्तु 641 3

### दातम (प्र)

कंप्यूटर डाटा 951 25

### दातव्य

देय 634 27

### दातव्यता

देयता 634 4

### दाता

ईश्वर 764.1

दान दाता 641 24

बलि दाता 754 22

भिक्षा दाता 642 21

यजमान 743 6

वधु पक्ष 801 2

सवाददाता 445 22

साहकार 633 4

### दाता [दात्री]

दानी 641 27

प्रदाता 638 15

### दातार

ईश्वर 764 1

दानी 641 27

प्रदाता 638 15

### दाति

प्रदान 638 1

### दातुन

दातीन 221 8

### दातीन

दातीन 221 8 ⇨

### दाद

दाद 165 4 ⇨

प्रशसा 841 1

साधुवाद 841 20

### दाद देना

साधुवाद करना 841 27

### दादनी

देय वस्तु 634 5

### दादरा

राग गायन शैली सूची 460 39

### दादरा और नगर हवेली

दादरा और नगर हवेली 28 40 ⇨

### दादरा और नगर हवेली: राजधानी

दादरा और नगर हवेली: राजधानी 28 41 ⇨

### दादस

दादस 724 9 ⇨

### दादसरा

दादसरा 724 8 ⇨

### दादसरा: पत्नी

दादस 724 9

### दादा

दादा 722.5 ⇨

परदा निषिद्ध संबंधी सूची 591.7

बका भाई 723 9

भाई 723 4

### दादा दादी

अतीत जन 63 4

### दादा नाना

अतीत जन 63 4

### दादा परदादा [दादी परदादी]

दाद परदाद [दादी परदादी] 722.4 ⇨

### दादा पोता [दादी पोती]

दादा पोता [दादी पोती] 722.11 ⇨

### दादालाई

दायागत 623 27

पैतृक 727 43

### दादालाई जायदाद

पैतृक संपत्ति 624 7

### दादा लोग

गुरुजन समष्टि 722 1

### दादा ससुर

दादसरा 724 8

### दादी

दादी 722 6 ⇨

फरियादी 350 22

### दादी की कहानी

बाल कथा 450 5

### दादुर

मेढक 124.2

### दादू

दादा 722 5

### दादे परदादे

अतीत जन 63 4

गुरुजन समष्टि 722 1

### दाधिक

दधीय 193 18

### दान

उपहार प्रदान 640 1

ग्रहशांति 261 27

### दान

डिब्बा 676 1

### दान

दक्षिणा 640 6

दान 641 1 ⇨

दान वस्तु 641 3

दान नीति 819 5

बलि कर्म 754 1

भिक्षा वस्तु 642 6

वारफेर 710.12

स्वार्थ त्याग 712 8

### दान (दे.)

प्रदान 638 1

### दान अप्रदान

दानहीनता 639 10

### दान करना

दान देना 641 19

### दान कर्ता

दानी 641 27

### दान खाता

धर्मार्थ दान 641.8

### दान ग्रहण

दान ग्रहण 641.16 ⇨

### दान ग्रहण करना

दान लेना 641.20

दानग्राही 641.25 ⇨

### दान दक्षिणा

दक्षिणा 640 6

### दान दत्त

दान दत्त 641.23 ⇨

दानः दस्तावेज  
दान पत्र 641.4  
दान दाता  
दान दाता 641.24 ⇨  
दान देना  
दान देना 641.19 ⇨  
दान धर्म  
दान 641.1  
दानपति  
दानवीर 641.28  
दान पत्र  
दान पत्र 641.4 ⇨  
दानपात्र  
दानपात्र 641.26 ⇨  
दान पात्र  
दान संग्रह पात्र 641.5  
दान पुण्य  
दान 641.1  
दान पेटी  
दान संग्रह पात्र 641.5  
दान प्राप्ता  
दानग्राही 641.25  
दान भूमि  
धर्मार्थ भूमि 553.7  
दान भोगी  
दानग्राही 641.25  
दान यज्ञ  
यज्ञ सूची 753.2  
दान योग्य  
दानपात्र 641.26  
दान लेना  
दान लेना 641.20 ⇨  
दानव  
असुर 783.6  
दानव 783.11 ⇨  
देव दानव 783.16  
दानव (दे.)  
असुर आदि 783.3  
दानव गुरु  
शुक्राचार्य 789.23  
दानवता  
असुरता 783.5  
दानवीयता 734.4  
दानव मर्दक  
असुर नाशक 783.30  
दानव मर्दन  
असुर नाश 783.10  
दानवमर्दन  
असुर नाशक 783.30  
दानवः माता  
दनु 787.15  
दानव राज  
विप्रचिन्ति 783.15  
दानव विषयक  
दानवीय 783.31  
दानव सुषी  
दानव सुषी 783.13 ⇨

दान वस्तु  
दान वस्तु 641.3 ⇨  
दानव स्त्री  
दानव स्त्री 783.12 ⇨  
दानवारि  
इंद्र 773.5  
देवता 772.1  
दानवी  
दानव स्त्री 783.12  
दानवीय 783.31  
दानवीय 734.16  
दानवीय  
दानवीय 734.16 ⇨  
दानवीय 783.31 ⇨  
दानवीयता  
दानवीयता 734.4 ⇨  
दानवीयतापूर्ण  
दानवीय 734.16  
दानवीर  
दानवीर 641.28 ⇨  
दानवीर कर्ण  
कर्ण 771.47  
दानवेंद्र  
प्रह्लाद 769.22  
बलि 769.37  
दानवोचित  
दानवीय 734.16  
दानवोचितता  
दानवीयता 734.4  
दानशील  
दानवीर 641.28  
दानशीलता  
दानीत्व 641.2  
दानशूर  
दानवीर 641.28  
दान संग्रह पात्र  
दान संग्रह पात्र 641.5 ⇨  
दानहीन  
अदानी 639.28  
दानहीनता  
दानहीनता 639.10 ⇨  
दाना  
अदद 948.2  
अनाज 187.1  
अनाजः खंड 192.1  
आखेट चारा 252.6  
आहार पदार्थ 186.1  
कण 938.2  
गुदापुंद 166.2  
गुलदाना 203.9  
चनीरी 200.14  
चबैना 200.6  
दाना 977.7 ⇨  
धातु पिंड सूची 976.12  
नुकती 203.16  
पशु पक्षी आहार 556.1  
फुंसी 167.1  
बाज़ीगरः गोटी 473.20

बुद्धिमान व्यक्ति 301.6  
मटर दाना 977.8  
मनका 228.48  
व्रण अकुर 167.13  
दाना चुगना  
चुग्गा लेना 181.40  
दाना खालना  
लुब्ध करना 359.16  
दानाधिकारी  
दानपात्र 641.26  
दाना नसीब न होना  
आहार अभाव होना 627.11  
दानापानी  
निवास संयोग 616.2  
दानार्थ  
दानार्थ 641.22 ⇨  
दानार्थ प्रस्तुति  
घेरिटी शो 468.7  
दानिहा  
बुद्धि 301.1  
दानिशमंद  
बुद्धिमान 301.21  
दानिशमंदी  
बुद्धिमत्ता 301.5  
दानी  
ईश्वर 764.1  
टेक स्टैड 596.8  
-दानी  
डिबिया 676.4  
डिब्बा 676.1  
दानी  
दान दाता 641.24  
दानी 641.27 ⇨  
शिक्षा दाता 642.21  
वधु पक्ष 801.2  
स्वार्थ त्यागी 712.19  
दानीत्व  
दानीत्व 641.2 ⇨  
दानीय  
दानपात्र 641.26  
दानार्थ 641.22  
दानु  
जयी 912.15  
दानव 783.11  
वीर 396.6  
दाने  
मरोड़ी 165.10  
दाने अलग करना  
ओसाना 548.41  
दाने दाने की मुहताजी  
आहार अभाव 627.3  
दानेदार  
दरदरा [दरदरी] 540.18  
दानेदार झरी  
राव 280.8  
दाने निकला डंठल  
सूखा डंठल 114.4

दाने बीनना  
उँछाई करना 548.42  
दाप  
दर्प 858.5  
प्रभाव 511.1  
दाब  
घाप 414.9  
दबाई 989.5  
दाब 989.4 ⇨  
निष्कर्षण 83.1  
प्रताप 849.5  
भार 963.1  
दाब खालना  
दबाना 989.8  
दाबदार  
प्रतापशाली 849.19  
दाबनहार  
दबाने वाला 989.12  
दाबना  
अत्याचार करना 835.6  
खोद कर गाड़ना 1018.13  
गाड़ कर रखना 645.6  
गोपन करना 824.14  
दबाना 989.8  
दबाना 989.8  
दबोचना 868.31  
निष्कर्षित करना 83.11  
पकड़ना 868.30  
भुगतान न करना 639.11  
संकुचित करना 980.16  
दाबने वाला  
दबाने वाला 989.12  
दाब पक्कन  
प्रेशर कुकिंग 195.37  
दाबा  
क्रलम लगाई 548.11  
दाभ  
घास 11.6  
दर्भ घास 11.9  
दाभ  
कंठहार 228.26  
दाभ नीति 819.5  
घन 628.1  
घन संपत्ति 624.10  
नीति चतुष्टय सूची 819.3  
फंदा 572.8  
माला 228.30  
मूल्य 864.1  
रस्सी 570.5  
रेखा 968.6  
दाभन  
तलहटी 16.13  
पस्ताव 586.24  
मिखा झोली 642.10  
नामनाः पल्ला 585.72  
दानन धामना  
शरण लेना 910.7

## दामन फैलाना

दामन फैलाना  
प्रार्थना करना 350 11  
दामनी  
घोड़ा चादर 593 26  
रस्ती सूची 570.6  
दाम नीति  
दाम नीति 819.5 ⇨  
दामाद  
दामाद 724.22 ⇨  
दामास्ताह  
दियालिया 646.19  
दामिनी  
भेघ विद्युत 55 9  
दामी  
बहुमूल्य 664 31  
दामोदर  
कृष्ण 771 1  
नारायण (नर) 764 19  
भारत उपमहाद्वीप नदी सूची 20 7  
विष्णु 768.1  
दाय  
उत्तराधिकार 623.1  
गवर्नस 720 4  
देय 634.27  
दायक  
प्रदाता 638 15  
दायजा  
दहेज 802 4  
दायता  
देयता 634.4  
दायबा  
पुत्री 718.10  
दाय दान  
उत्तराधिकार दान 623 12  
दाय भाग  
उत्तराधिकार 623 1  
प्राय अश 623.8  
दायभागी  
उत्तराधिकारी 623 2  
दायर  
परिक्रमणशील 1033.20  
दायर करना  
अभियोग लगाना 875.20  
दायरा  
अधिकार क्षेत्र 897.2  
वृत्त (चक्र) 972.1  
दाय विभाजन  
उत्तराधिकार विभाजन 623.6  
दायी  
तबला दाहिना 461.50  
दायी [बाईं]  
दक्षिण पार्श्वीय 997.21  
दायी बाजू  
दक्षिण पार्श्व 997 7  
दायी बायीं  
दक्षिण वाम 997 20  
दायी भाग  
दक्षिण पार्श्व 997 7

1092

दायागत  
आनुवंशिक 727 39  
दायागत 623 27 ⇨  
दायागतता  
दायागतता 623.19 ⇨  
दायाद  
सपिंड रिश्तेदार 729.8  
दायाद में मिलना  
उत्तराधिकार में मिलना 623.22  
दायाद वंश  
उत्तराधिकार वंश 623 11  
दायाद वंशित  
उत्तराधिकार वंशित 623.25  
दायादहीन  
उत्तराधिकारीहीन 623 26  
दायादहीनता  
उत्तराधिकारीहीनता 623.18  
दायादी  
पुत्री 718 10  
दायाधिकार  
उत्तराधिकार 623.1  
दायाधिकारी  
उत्तराधिकारी 623 2  
दायित्व  
कर्तव्य 895 4  
ठेका 659 13  
दायित्व 895.1 ⇨  
दायित्व अपालक  
दायित्व अपालक 896.6 ⇨  
दायित्व निर्वाह  
कर्तव्य पालन 895.5  
दायित्व पालन 895 2  
दायित्व पर  
दायित्व पर 895.14 ⇨  
दायित्व पालक  
दायित्व पालक 895.10 ⇨  
दायित्व पालन  
दायित्व पालन 895.2 ⇨  
दायित्व पालन करना  
दायित्व पालन करना 895.7 ⇨  
दायित्वपूर्ण  
दायित्वपूर्ण 895.9 ⇨  
दायित्वपूर्वक  
दायित्वपूर्वक 895.13 ⇨  
दायित्व लेना  
दायित्व लेना 895.6 ⇨  
दायित्वहीन  
दायित्वहीन 896.5 ⇨  
दायित्वहीनता  
दायित्वहीनता 896.1 ⇨  
दायित्वहीनता उत्तर  
स्पष्टीकरण 876.11  
दायित्वाधीन  
उत्तरदायी 895.11  
दायी  
देयी 634 28  
दायी [दायिनी]  
प्रदाता 638 15

-दार  
धारण कर्ता 1019 22  
दार  
पत्नी 803.6  
विदरण 544 2  
-दार [-दारनी]  
सहित प्रत्यय सूची 1006 5  
दारक  
विदारक 544 19  
दारचीनी  
दारचीनी 281 20 ⇨  
दारण  
विदरण 544 2  
विदीर्णन 544 3  
दारमदार  
दायित्व 895 1  
दारा  
राजा 882.6  
सम्राट 882 24  
दारावलंबी  
दारावलंबी 648 13 ⇨  
दारिका  
पुत्री 718 10  
दारिद्र्य  
मलिनता 217 1  
दारु  
काष्ठ 597 1  
देवदारु 134 0  
भंजनशील 539.14  
दारुका  
कठपुतली 473.5  
काष्ठ मूर्ति 406 8  
दारुगंधा  
गंधा विरोजा 1012 10  
दारुचीनी  
दारचीनी 281.20  
दारुण  
असह्य 873 14  
कठिन 519 18  
निर्दय 835.10  
प्रबल 487.24  
भयानक 395.25  
दारुण रस  
भयानक रस 455 15  
दारुणा  
रुसी 215 7  
दारु नदी  
कठपुतली 473 5  
दारु पुत्री  
कठपुतली 473 5  
दारुफल  
पिस्ता 191.9  
दारुसिता  
दारचीनी 281.20  
दारुहस्त  
काठ कलछी 681.6  
दारु  
औषध 176 1

देसी शराब 209 3  
मद्य 209 1  
दारु दरभन  
चिकित्सन 171 8  
दारुबंदी  
मद्य निषेध 209 28  
दारो  
अनारदाना 277.4  
दारोगा  
कार्याध्यक्ष 652 17  
थानेदार 866 9  
प्रबंधक 655 9  
रक्षक 908 20  
दारुदुर  
दक्षिणावर्त शस्त्र 461 79  
दार्शनिक  
ऋषि 789 2  
दार्शनिक 760 3 ⇨  
विचारक 330 6  
दार्शनिक कर्म  
दार्शनिक कर्म 760.2 ⇨  
दार्शनिक प्रणाली  
दार्शनिक प्रणाली 760.4 ⇨  
दाल  
दलहन 188 1  
दली दाल 188 2  
पकी दाल 201 12  
दाल गोश्त  
दाल गोश्त 206.33 ⇨  
दाल चावल  
परचून सूची 186 9  
दालचीनी  
दारचीनी 281 20  
दाल: छिलका  
दाल छिलका 116.9 ⇨  
दाल धुलाई  
घोया उतराई 542.6  
दाल धोना  
घोया उतारना 542 14  
दाल बड़ा  
बड़ा 200 21  
दाल रोटी  
आहार पदार्थ 186.1  
निर्धन आहार 197.8  
दाल सब्जी परोस: भरतन  
झाम 681.8  
दालान  
दालान 615.5 ⇨  
दालान: पार्श्व कोठरी  
दालान: पार्श्व कोठरी 614.5  
दाई  
अवसर 70 1  
उपयुक्त अवसर 70.3  
दौब 481 17  
पारी 70 9  
दाब  
दाबा दीप्ति 287.17

<b>दाबत</b>	<b>दास भाव</b>	<b>दाहिना तबला</b>	<b>दिक्करिणी</b>
निमंत्रण 1056 1	<i>दास भाव</i> 752.14 ⇨	तबला: दाहिना 461.50	दिग्गज स्त्री 780.2
भोज निमंत्रण 183 13	<b>दास वृत्ति</b>	<b>दाहिना पार्श्व</b>	<b>दिक्करी</b>
सहभोज 183.4	दासता 651.7	दक्षिण पार्श्व 997.7	दिग्गज 780.1
<b>दाबत का भोजन</b>	<b>दास संतान</b>	<b>दाहिना फुफ्फुस</b>	युवती 231.9
भोज सामग्री 183.18	गृहज दास 651.14	<i>दाहिना फुफ्फुस</i> 146.3 ⇨	<b>दिक्कांता</b>
<b>दाबत देना</b>	<b>दास स्वामी</b>	<b>दाहिना बायीं</b>	दिशा सुंदरी 29 2
निमंत्रित करना 1056 5	<i>दास स्वामी</i> 651.17 ⇨	दक्षिण वाम 997.20	<b>दिक्कामिनी</b>
<b>दाबतनामा</b>	<b>दासानुदास</b>	<b>दाहिना हाथ</b>	दिशा सुंदरी 29 2
निमंत्रण पत्र 1056 2	विनम्र सेवक 651 3	<i>दाहिना हाथ</i> 149 3 ⇨	<b>दिक्काल</b>
<b>दाबते शीराज़</b>	<b>दासी</b>	<b>दाहिनी</b>	चार आयाम 964 12
साधारण आहार 197 10	<i>दासी</i> 651 10 ⇨	तीर्थ परिक्रमा 1089 4	<i>दिक्काल</i> 964.16 ⇨
<b>दावा</b>	<b>दासेयी</b>	<b>दाहिनी ओर</b>	ब्रह्मांड 1.1
अधिकार 897 1	सत्यवती 771 95	दाहिने 1098 30	<b>दिक्कालयुक्त</b>
अधिकार दावा 897 5	<b>दासेरक</b>	<b>दाहिनी पुगली</b>	चतुरायामीय 964 25
आरोप 875 7	ऊँट 127 27	<i>दाहिनी पुगली</i> 141 6 ⇨	<b>दिक्कालहीन</b>
गर्वोक्ति 842.2	शूद्र 731.28	<b>दाहिने</b>	आयामहीन 964.21
वाद प्रस्तुति 324 8	<b>दासोन्माद</b>	<i>दाहिने</i> 1098.30 ⇨	<b>दिक्कालहीनता</b>
<b>दावा करना</b>	आत्मपीडनोन्माद 35 18	<b>दाहिने बाएँ की जोत</b>	आयामहीनता 964.3
अधिकार का दावा करना 897.11	<b>दास्तान</b>	जोत जोड़ी 1071 32	<b>दिक्कालीन</b>
<b>दावाग्नि</b>	कथा कृति 450 3	<b>दाहिने बाएँ गति</b>	चतुरायामीय 964.25
दावा दीप्ति 287 17	विवरण 449 8	पैडुलम गति 1035.9	<i>दिक्कालीन</i> 964.26 ⇨
<b>दावा घोषित करना</b>	<b>दास्य</b>	<b>दाहिने से चौथा स्थान</b>	ब्रह्मांडीय 1.15
अधिकार का दावा करना 897 11	दासता 651 7	हजार स्थान 948 11	<b>दिक्कालीनता</b>
<b>दावात</b>	दास भाव 752 14	<b>दाहिने से तीसरा स्थान</b>	चतुरायामता 964.14
दयात 416 26	नवधा भक्ति सूची 752 6	सैकड़। स्थान 948 10	<b>दिक्कुंजरिणी</b>
<b>दावा दीप्ति</b>	<b>दाह</b>	<b>दाहिने से दूसरा स्थान</b>	दिग्गज स्त्री 780.2
<i>दावा दीप्ति</i> 287.17 ⇨	उष्णता 104 1	दहाई स्थान 948 9	<b>दिक्कक</b>
<b>दावानल</b>	ताप 103 1	<b>दाहिने से चौथवाँ स्थान</b>	दिशा मंडल 29.21
दावा दीप्ति 287 17	मनोव्यथा 391 7	दस हजार: स्थान 948 12	<b>दिक्कपति</b>
<b>दावेदार</b>	शवदाह 253 4	<b>दाहिने से बाएँ रेखा</b>	लोकपाल 780.6
अधिकार दावेदार 897 18	<b>दाह उत्कीर्णन</b>	क्षैतिज रेखा 968 21	<b>दिक्कपाल</b>
स्वघोषित (दावेदार) 897 19	<i>दाह उत्कीर्णन</i> 406.23 ⇨	<b>दाही</b>	लोकपाल 780 6
<b>दाशमिक</b>	<b>दाहक</b>	दग्धक 108 15	<b>दिक्कुंबरी</b>
दसवाँ [दसवीं] 948 96	अग्नि 106 1	शवदाह कर्ता 253.37	दिशा सुंदरी 29 2
<b>दाशरथि</b>	दग्धक 108.15	<b>दास्य</b>	<b>दिखता [दिखती]</b>
राम 770 1	<b>दाह कर्ता</b>	दहनशील 108.14	दृश्यमान 282 19
<b>दाशरथि राम</b>	दग्धक 108 15	<b>दिअना</b>	<b>दिखन</b>
राम 770 1	शवदाह कर्ता 253.37	दीपक 285 13	प्रकटन 822.7
<b>दाशोष्ठी</b>	<b>दाहन</b>	<b>दिअरा</b>	<b>दिखना</b>
सत्यवती 771 95	दहन 108 1	दीपक 285 13	दृश्य होना 282.15
<b>दासत</b>	<b>दाहना</b>	<b>दिअला</b>	प्रकट होना 822.17
कुन्हार भट्टी 109 12	अग्नि उदीप्त करना 107 12	दीपक 285.13	स्पष्ट होना 822 13
<b>दास</b>	आग जलाना 107 10	<b>दिउली</b>	<b>दिखलावा</b>
आत्मज्ञानी 761 28	<b>दाहभूमि</b>	मत्स्य शल्क 134 18	दिखावा 825.1
खलासी 1080.22	रमशान 254.9	<b>दिक्र</b>	<b>दिखवाटी छत</b>
घण्टू धारी 1080.20	<b>दाह संस्कार</b>	क्षय रोग 163 35	सजावटी छत 611.21
<i>दास</i> 651.8 ⇨	शवदाह 253 4	परेशान 519 21	<b>दिखा [दिखी]</b>
<b>दास [दासी]</b>	<b>दाहहीन</b>	<b>दिक्रकृत</b>	अवलोकित 284.47
नगण्य व्यक्ति 853 4	अनुष्ण 104 19	असुविधा 519.3	<b>दिखाई</b>
<b>दासता</b>	<b>दाहागार</b>	<b>दिक्रकृत सलब</b>	कन्या दिखाई 799.32
<i>दासता</i> 651.7 ⇨	<i>दाहागार</i> 254.14 ⇨	असुविधापूर्ण 519.19	प्रदर्शन 285.1
पराधीनता 901.1	दाहित 109 2	कठिन 519 18	<b>दिखाई देना</b>
परावलंबितता 648.3	<b>दाहित</b>	<b>दिक्कन्या</b>	दृश्य होना 282 15
<b>दास पुत्र [दास पुत्री]</b>	दाहागार 254.14	दिशा सुंदरी 29.2	<b>दिखाई न देना</b>
गृहज दास 651.14	<i>दाहित</i> 109.2 ⇨	<b>दिक्कर</b>	अधिकार होना 286.10
<b>दास बनाना</b>	<b>दाहिना [दाहिनी]</b>	युवक 231.8	<b>दिखाऊ</b>
<i>दास बनाना</i> 651.24 ⇨	दक्षिण पार्श्वीय 997.21	शिव 767.1	औपचारिकतापूर्ण 184 10

## दिरखाना

- दिखावटी 825.5  
**दिखाना**  
 परामर्श देना 332 10  
 प्रदर्शित करना 285.36  
 प्रमाणित करना 327 7  
 रहस्य खोलना 822 18  
**दिखाने के रीत**  
 बाह्य रूप 967.8  
**दिखाने भर को**  
 अत्यल्पतः 942.24  
**दिखाने योग्य**  
 प्रदर्शनीय 285.43  
**दिखाने वाला**  
 प्रदर्शक 285.44  
**दिखावा [दिखाई]**  
 प्रदर्शित 285 42  
**दिखावट**  
 तथाकथितता 821 10  
 दिखावा 825.1  
**दिखावटी**  
 अघनिष्ठ 697 17  
 औपचारिकतापूर्ण 184 10  
 कूटकृत 98 14  
 तद्भक्तमङ्कदार 226 14  
 तथाकथित 821 21  
*दिखावटी 825.5 ⇨*  
 पाखंडपूर्ण 825.6  
**दिखावटी औषु**  
*दिखावटी औषु 387.2 ⇨*  
**दिखावटी तौर पर**  
*दिखावटी तौर पर 825.7 ⇨*  
**दिखावटी धार्मिकता**  
 धर्म पाखंड 825.3  
**दिखावटी निवा**  
 ब्याज निदा 843 3  
**दिखावटीपन**  
 दिखावा 825 1  
**दिखावटी परिवर्तन**  
 ऊपरी परिवर्तन 532 8  
**दिखावटी मित्र**  
 सस्वार्थ मित्र 705.8  
**दिखावटी मित्रता**  
 सस्वार्थ मित्रता 705 7  
**दिखावटी रूप**  
 बाह्य रूप 967 8  
**दिखावटी साहस**  
*दिखावटी साहस 394.2 ⇨*  
**दिखावा**  
 अत्यल्पता 942.2  
 औपचारिकता 184.3  
*दिखावा 825.1 ⇨*  
 धर्म कर्म: आडंबर 747.2  
 धर्म पाखंड 825 3  
 पाखंड 825.2  
 बाह्य रूप 967.8  
**दिखानी**  
 कन्या दिखाई 799.32

- दिगंगना**  
 दिशा सुंदरी 29.2  
**दिगंत**  
 अनंत स्थान 33 3  
 क्षितिज 2 4  
*दिगंत 29.3 ⇨*  
**दिगंत यात्रा**  
 अंतरिक्ष यात्रा 1087.23  
**दिगंत यान**  
 अंतरिक्ष यान 1075 6  
**दिगंततर**  
 अश 960.12  
 अनंत स्थान 33 3  
 दिशावकाश 29 22  
**दिगंतीय**  
 क्षितिजीय 2 9  
**दिगंबर**  
*दिगंबर 737 3 ⇨*  
 दिगंबर साधु 790 25  
 नग्न 590 16  
 नग्न साधु 790 19  
 शिव 767 1  
**दिगंबरता**  
 नग्नता 590 1  
**दिगंबरवाद**  
 नग्नतावाद 590 4  
**दिगंबरवादी**  
 नग्नतावादी 590 5  
**दिगंबर वेश**  
*दिगंबर वेश 589 8 ⇨*  
**दिगंबर साधु**  
*दिगंबर साधु 790 25 ⇨*  
 नग्न साधु 790 19  
**दिगंबरा**  
 शीतला 774 91  
**दिगंबरी**  
 दुर्गा 776 7  
**दिगंश**  
 अश 960 12  
 देशांश 10 14  
**दिगंश कोटि**  
 अंश 960 12  
**दिगंधिप**  
 लोकपाल 780 6  
**दिगीश**  
 लोकपाल 780 6  
**दिगीश्वर**  
 लोकपाल 780.6  
**दिग्गज**  
 आठ. उपमान सूची 948 32  
*दिग्गज 780.1 ⇨*  
 पृथ्वीधर सूची 9 3  
**दिग्गज पत्नी सूची**  
*दिग्गज पत्नी सूची 780.4 ⇨*  
**दिग्गज सूची**  
*दिग्गज सूची 780 3 ⇨*  
**दिग्गज स्त्री**  
*दिग्गज स्त्री 780.2 ⇨*

- दिग्गजी**  
 दिग्गज स्त्री 780.2  
**दिग्गयंद**  
 दिग्गज 780.1  
**दिग्घटी**  
 दिशा यत्र 29 18  
**दिग्घ्या**  
 अश 960 12  
**दिग्दशंक**  
 दिशा यंत्र 29 18  
 निर्देशक 347 19  
 मच निर्देशक 468 11  
**दिग्दशंक यंत्र**  
 दिशा यत्र 29 18  
**दिग्दशित्र**  
 दिशा यत्र 29 18  
**दिग्दिगंत**  
 अनंत स्थान 33 3  
**दिग्दिगंतता**  
 असीमता 1001 3  
**दिग्दिगंत में**  
 चतुर्दिशत 29 36  
**दिग्दिगंत व्यापी**  
 असीम 1001 34  
**दिग्धारण**  
 दिग्गज 780 1  
**दिग्बल**  
 जड़त्वीय बल 1050 5  
**दिग्भ्रम**  
 दुबिधा 501 1  
 भ्रम 342 1  
 मार्ग भ्रम 1099 1  
**दिग्भ्रमहीन**  
 दुबिधाहीन 500 13  
**दिग्भ्रमित**  
 मार्गभ्रांत 1099 7  
**दिग्भ्रांत**  
 दुबिधाग्रस्त 501.8  
 मार्गभ्रांत 1099 7  
**दिग्भ्रामक**  
 दुबिधाजनक 501 9  
**दिग्बसन**  
 दिगंबर 737 3  
**दिग्बासा**  
 दिगंबर 737 3  
**दिग्बिजय**  
 विश्वजय 912 6  
**दिग्बिजय यात्रा**  
*दिग्बिजय यात्रा 907.27 ⇨*  
**दिग्बिजयी**  
 विश्व विजेता 912 20  
**दिग्बिजेता**  
 विश्व विजेता 912 20  
**दिग्ब्याप्त**  
 सर्वव्यापक 981.13  
**दिग्ब्याप्तता**  
 सर्वव्यापकता 981.4

- दिग्हस्तिनी**  
 दिग्गज स्त्री 780 2  
**दिग्हस्ती**  
 दिग्गज 780 1  
**दिग्नाग**  
 दिग्गज 780 1  
**दिग्नाथ**  
 लोकपाल 780 6  
**दिग्मंडलीय**  
 क्षितिजीय 2 9  
**दिग्मूढ़**  
 दुबिधाग्रस्त 501 8  
 लक्ष्य भ्रमित 931 24  
**दिग्मंडल**  
 दिशा मंडल 29.21  
**दिठोना**  
 नज़र टीका 710 11  
**दिति**  
 उत्तराधिकार विभाजन 623 6  
*दिति 787 16 ⇨*  
**दिति (पुराण)**  
 मरुत माता 781 3  
**दितिज**  
 दैत्य 783 17  
**दिति: पुत्र** (वाल्मीकि परामायण)  
 मय 783 20  
**दिति: पुत्री**  
 सिंहिका 783 24  
**दिति संतान**  
 दैत्य 783 17  
**दितिचुत**  
 दैत्य 783 17  
**दित्य**  
 दैत्य 783 17  
**दिधार**  
 आटि 126 13  
**दिधिषु**  
 दो बार विवाहित 799 69  
**दिधीषु**  
 दो बार विवाहित 799 69  
**दिन**  
 अंतिम दिन 39 4  
 अवसर 70 1  
 अहोरात्र दो भाग 46.16  
 उपयुक्त अवसर 70 3  
 काल 36.1'  
 जयती 58 1  
 तारीख 44 1  
*दिन 47.1 ⇨*  
 सप्ताह वार 46.2  
**दिन: अंत**  
 सायंकाल 47.13  
**दिन: आरंभ काल**  
 प्रभात काल 47.4  
**दिनकर**  
 सूर्य 8 1  
**दिनकंठ**  
 सूर्य 8.1

**दिन क्षय**  
तिथि क्षय 44 4

**दिन खड़ना**  
गर्भवती होना 241.13

**दिनखर्चा**  
दैनिक गतिविधि 502 3

**दिन: चौथा पहर**  
दिन चौथा पहर 49.6 ⇨

**दिन खूबना**  
सायकाल होना 47 18

**दिन ढलना**  
सायकाल होना 47 18

**दिन ढले**  
जल्दी रात मे 48 15

**दिन: तीन भाग**  
त्रिसंध्या 47 2

**दिन: तीसरा पहर**  
दिन तीसरा पहर 49 5 ⇨

**दिन दहाड़े**  
अगुप्तत 822 34

**दिन दिन**  
प्रति दिन 1049 20

**दिन: दूसरा पहर**  
दिन दूसरा पहर 49 4 ⇨

**दिन निकलना**  
प्रभात होना 47 17

**दिन निकले**  
प्रभात मे 47 21

**दिनपति**  
सूर्य 8 1

**दिन: पहला पहर**  
दिन पहला पहर 49 3 ⇨

**दिन प्रति दिन**  
विकास क्रम से 991 33

**दिन ब दिन**  
विकास क्रम से 991.33

**दिन बीतना**  
सायकाल होना 47 18

**दिन भर**  
पूरे दिन 1049.21

**दिनभूत**  
रोज़दार 643 17

**दिनभूति**  
रोज़दारी: आय 643.16

**दिन भूतिक**  
रोज़दार 643 17

**दिनभूतिला**  
रोज़दारी 643.15

**दिन मणि**  
सूर्य 8.1

**दिनमल**  
मास 43.1

**दिनमान**  
दिन 47.1

**सूर्य 8.1**

**दिनमाली**  
सूर्य 8 1

**दिनमुख**  
प्रभात काल 47.4

**दिन रात**  
अविराम 1049 10  
अहोरात्र 46.10  
आवर्तन काल 5.2  
उन्नति अवनति 532.3  
विपरीतता. उपमान सूची 310 13  
हमेशा 1049 17

**दिन रात: इ4**  
घटा 50 8

**दिन-रात: संधिकाल**  
दिन-रात संधि काल 47 15

**दिन-रात: संधि काल**  
दिन-रात संधि काल 47.15 ⇨

**दिन रैन**  
अहोरात्र 46 10

**दिनांक**  
तारीख 44 1

**दिनांत**  
सायंकाल 47 13

**दिनागम**  
प्रभात काल 47 4

**दिनात्यय**  
सायंकाल 47.13

**दिनारंभ**  
प्रभात काल 47 4

**दिनार्ध**  
मध्याह्न 47 9

**दिनास्त**  
सायंकाल 47 13

**दिनेश**  
सूर्य 8 1

**दिनेशात्मज**  
कर्ण 771 47

**दिनेशात्मजा**  
ताप्ती 20 15  
यमुना 20.18

**दिपदिप**  
आलोकित 285 45

**दिपदिपाना**  
आलोकित होना 285.38

**दिपाना**  
उज्ज्वल करना 218.32

**दिमाग**  
अभिमान 858.1  
बुद्धि 301 1  
भेजा 140 10  
मन 351.2  
मस्तिष्क 140.9

**दिमाग अर्वा पर होना**  
दर्प करना 858.9

**दिमाग का झलाज**  
मनो विकिरसा 354.16

**दिमाग की उपज**  
तथ्यहीन 821 22

**दिमाग खपाई**  
माथापच्ची 321 31

**दिमागाघट**  
बकवासी 428 26

**दिमागादार**  
दर्पी 858.13

**दिमागी**  
काल्पनिक 308.18  
बुद्धीय 301 20  
मस्तिष्कीय 140 27

**दिमागी अस्पताल**  
पागलखाना 354.17

**दिमागी खोखलापन**  
विचारहीनता 330 7

**दियना**  
दीपक 285.13

**दियरा**  
दीपक 285.13

**दिया**  
घटा प्रविष्टि 632 6  
दीपक 285.13

**दिया [दी]**  
प्रदत्त 638.14

**दिया जले**  
सायंकाल में 47 22

**दियाबाली**  
दीप प्रज्वलन 285 4

**दियारा**  
कछार 25 26  
क्षेत्र 34 1  
गुल 106 14

**दियासा**  
मृग दर्शन 342 6

**दिल**  
इच्छा 359 1  
मन 351.2  
मनोबल 394.4  
स्वभाव 836.4  
हृदय 146.5

**दिल अटकना**  
प्रेम होना 368 12

**दिल अटकाना**  
प्रेम करना 368 13

**दिल आना**  
लालसा होना 359.13

**दिलआरा**  
प्रेमपात्र 369.4

**दिलकश**  
सुंदर 157 7

**दिल का छोटा**  
अकल्याण कामी 711 11

**दिल का राजा**  
प्रेमपात्र 369.4

**दिल की आग**  
लालसा 359.5

**दिल की आग बुझाना**  
इच्छा पूरी होना 361.7

**दिल की आवाज़**  
मन 351.2

**दिल की विल में रहना**  
इच्छा पूरी न होना 362.3

**दिल की बककन**  
हृदय स्पंदन 1039.4

**दिल की बीमारी**  
हृदय रोग 183.38

**दिल की रानी**  
प्रेमपात्रा 369.5

**दिल की लगी**  
प्रेम 368.1  
लालसा 359.5

**दिल गैबाना**  
प्रेम करना 368.13

**दिल गुर्वा**  
साहस 394.1

**दिलबला [दिलबली]**  
इच्छुक 359 21

**दिलबस्प**  
रोषक 400.12

**दिलबस्पी**  
अभिरुचि 400 2  
रुचि 400.1

**दिलबस्पी लेना**  
अभिरुचि होना 400.9

**दिल चूर चूर होना**  
हृदय भंजित होना 391.22

**दिलजमई**  
विश्वसनीयता 340.2  
विश्वास 340.1  
संदेह निवारण 340.7

**दिलजला**  
क्लेशग्रस्त 392 24

**दिलजला [दिलजली]**  
भग्नहृदय 391.33

**दिलजीई**  
सांताना 393.4

**दिल टूटना**  
हृदय भंजित होना 391.22

**दिलदार**  
प्रेमपात्र 369.4  
प्रेमी 368.2  
रसिक 837.18

**दिलदारी**  
रसिकता 837.9

**दिल दुखना**  
मनोव्यथा होना 391.19

**दिल दीड़ना**  
लालसा होना 359.13

**दिल दीड़ाना**  
इच्छा होना 359.10  
लालसा करना 359.14

**दिलनशी**  
प्रेमपात्र 369.4

**दिलपसंद**  
प्रिय 369.7  
मनोवांछित 359.27

**दिलप्ररेख**  
प्रेमपात्रा 369.5

## दिलफेंक

दिलफेंक  
 प्रेम प्रवण 368.22  
 दिलबर  
 प्रेमपात्र 369.4  
 दिलबरी  
 प्रेमपात्रता 369.3  
 दिलबस्त  
 प्रेमासक्त 368.21  
 प्रेमी 368.2  
 दिल बहलाक  
 मनोरंजनपूर्ण 469.11  
 रोचक 400.12  
 दिल बहलाब  
 मनोरंजन 469.1  
 दिल बिगाड़ना  
 लालसा होना 359.13  
 दिल बिगाड़ना  
 लालसा करना 359.14  
 दिल मिलना  
 प्रेम होना 368.12  
 दिल में आना  
 इच्छा होना 359.10  
 दिल में उतरना  
 प्रिय होना 369.6  
 दिल में जगह देना  
 प्रेम करना 368.13  
 दिलरुबा  
 प्रेमपात्र 369.4  
 लाका [लागी] 721.15  
 सुंदर 157.7  
 दिलरुबाई  
 प्रेमपात्रता 369.3  
 दिल लगाना  
 प्रेम करना 368.13  
 दिल्लगी  
 रोमांस 368.9  
 दिल सुटना  
 सम्मोहित होना 367.4  
 दिलबर  
 प्रेमपात्र 369.4  
 दिलवाना  
 दिलाना 638.7  
 प्राप्त कराना 637.5  
 दिल बाला  
 दानवीर 641.28  
 प्रेमी 368.2  
 साहसी 394.13  
 दिल से हृदय धोना  
 प्रेम होना 368.12  
 दिल झारना  
 प्रेम करना 368.13  
 दिल्लक  
 प्रवाता 638.15  
 दिलाज़ार  
 कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369.8  
 दिलाना  
 दिलाना 638.7 ⇌  
 प्राप्त कराना 637.5

दिलारा  
 प्रेमपात्र 369.4  
 सुंदर 157.7  
 दिलाराम  
 प्रेमपात्र 369.4  
 दिलाबर  
 वीर 396.6  
 साहसी 394.13  
 दिलाबरी  
 वीरता 396.1  
 साहस 394.1  
 दिलासा  
 भय नाशन 394.9  
 सांत्वना 393.4  
 दिली  
 घनिष्ठ 704.27  
 दिली रूमाहिश  
 मनोवांछा 359.4  
 लालसा 359.5  
 दिली दोस्त  
 घनिष्ठ मित्र 704.14  
 दिलीप  
 दल नायक 852.6  
 दिलीपता  
 दल नायकता 852.5  
 दिलेर  
 वीर 396.6  
 साहसी 394.13  
 दिलेरी  
 वीरता 396.1  
 साहस 394.1  
 दिल्लगी  
 विनोद 385.1  
 दिल्लगीबाज़  
 विनोदी 385.13  
 दिल्लगीबाज़ी  
 विनोद प्रेम 385.2  
 दिल्लगी में  
 विनोदपूर्वक 385.15  
 दिल्ला  
 कपाट: दिल्ली 609.10  
 दिल्ली  
 केंद्र सरकार 890.14  
 दिल्ली 28.42 ⇌  
 दिल्ली: राजधानी 28.43  
 दिल्ली: राजधानी  
 दिल्ली: राजधानी 28.43 ⇌  
 दिल्ली सरकार  
 केंद्र सरकार 890.14  
 दिल्हा  
 कपाट दिल्ली 609.10  
 दिबंगत  
 मृत 249.23  
 दिवस  
 अहोरात्र 46.10  
 जयंती 58.1  
 दिन 47.1  
 सप्ताह: वार 46.2

दिवस मुद्रा  
 रोज़दारी. आय 643.16  
 दिबसांत  
 सायंकाल 47.13  
 सूर्यास्त 5.11  
 दिवसाबसान  
 सायंकाल 47.13  
 दिवसीय  
 दैनिक 71.14  
 दिवस्पति  
 इंद्र 773.5  
 दिवांध  
 उल्लू 126.14  
 दिवाधिका  
 छपूंदर 127.68  
 दिवाकर  
 कीआ 126.22  
 शिव 767.1  
 सुरजमुखी 14.25  
 सूर्य 8.1  
 दिवाधर  
 कस्तूरक 126.18  
 दिवाभिसारिका  
 दिवाभिसारिका नायिका 456.19  
 दिवाभिसारिका नायिका  
 दिवाभिसारिक नायिका 456.19 ⇌  
 दिवा मणि  
 सूर्य 8.1  
 दिवारारत्र  
 अहोरात्र 46.10  
 दिवाल  
 प्रदाता 648.15  
 दिवाला  
 दिवाला 646.8 ⇌  
 दिवाला निकलना  
 दिवाला निकलना 646.14 ⇌  
 दिवालिया  
 दिवालिया 646.19 ⇌  
 दिवालिया (दे.)  
 कंगाल 627.21  
 दिवालियापन  
 कंगाली 627.7  
 दिवाला 646.8  
 दिवालिया होना  
 दिवाला निकलना 646.14  
 दिवाली  
 दीवाली 57.15  
 दिवा स्वप्न  
 दिवा स्वप्न 267.2 ⇌  
 दिवा स्वप्न दर्शी  
 दिवा स्वप्न दर्शी 267.10 ⇌  
 दिवा स्वप्न देखना  
 दिवा स्वप्न देखना 267.7 ⇌  
 दिवीका  
 देवता 772.1  
 मधुमक्खी 122.39  
 स्वर्ग निवासी 259.11  
 हाथी 127.38

दिव्य  
 अति सुंदर 157.8  
 आकारीय 2.7  
 दैविक 772.40  
 दैवीय 733.15  
 परलौकिक 258.14  
 वैभवशाली 226.15  
 स्वर्गिक 259.10  
 दिव्य अस्त्र  
 दिव्यास्त्र 928.1  
 दिव्य गंधर्व  
 देव गंधर्व 778.9  
 दिव्यशु  
 अंधा [अंधी] 164.8  
 दिव्यता  
 दीप्ति 287.16  
 दैवीयता 733.4  
 दिव्य दर्शन  
 ईश्वर दर्शन 749.36  
 दिव्यदृष्टि  
 सजय 771.93  
 दिव्य नारी  
 देवी 774.1  
 दिव्य पाश  
 दिव्य पाश 928.4 ⇌  
 दिव्य पाश सूची  
 दिव्य पाश सूची 928.5 ⇌  
 दिव्य पिंड  
 आकाश पिंड 3.1  
 दिव्यपुत्र  
 कर्नर 14.3  
 दिव्य प्राणी  
 देवता 772.1  
 दिव्य मानुष  
 देव योनि 772.36  
 दिव्य यान  
 देवता: विमान 772.14  
 दिव्य रत्न  
 चित्तमणि 96.18  
 दिव्य लोक  
 स्वर्ग 259.1  
 दिव्य वाणी  
 देव वाणी 742.8  
 दिव्य बार्ता  
 न्यू टेस्टामेंट 739.12  
 दिव्य संदेश  
 न्यू टेस्टामेंट 739.12  
 दिव्यसार  
 साल 13.26  
 दिव्य सुख  
 अलौकिक सुख 390.6  
 दिव्यांगना  
 अप्सरा 782.2  
 देवी 774.1  
 दिव्या  
 अप्सरा सूची 782.3  
 दिव्या 783.23 ⇌  
 दैत्य: स्त्री सूची 783.21



पारिजात वृक्ष 13.30  
 दिव्याग्नि  
 वैद्यक अग्नि सूची 106.7  
 दिव्यायुध  
 शिव 767.1  
 दिव्यालोक  
 ईसा 791.8  
 दिव्यासन  
 योग आसन सूची 756.19  
 दिव्यास्त्र  
 दिव्यास्त्र 928.1 ⇌  
 दिव्यास्त्र सूची  
 दिव्यास्त्र सूची 928.2 ⇌  
 दिव्योदक  
 वर्षा जल 88.5  
 दिशा  
 दिशा 29.1  
 दिश गजी  
 दिग्गज स्त्री 780.2  
 दिश स्वामी  
 लोकपाल 780.6  
 दिशांत  
 सीमेतर क्षेत्र 34.5  
 दिशांतर  
 दिशावकाश 29.22  
 दिशांतरीय  
 उपदिशा विषयक 29.34  
 दिशा  
 आयाम 964.1  
 उद्देश्य 508.2  
 चक्र चौथा भाग 960.3  
 दस उपमान सूची 948.39  
 दिशा 29.1 ⇌  
 पार्श्व 997.1  
 शीघ्र स्थान 216.17  
 स्थान 33.1  
 दिशा अंत  
 दिगत 29.3  
 दिशा अनुगमन  
 दिशानुगमन 1098.7  
 दिशा अपरिवर्तन  
 दिशानुगमन 1098.7  
 दिशाई  
 देशिक 29.28  
 दिशाकाल  
 दिक्काल 964.16  
 दिशा गज  
 दिग्गज 780.1  
 दिशा घटी  
 दिशा यत्र 29.18  
 दिशा घयन  
 दिशा निर्धारण 29.23  
 दिशा छोर  
 दिगंत 29.3  
 दिशात्मक  
 देशिक 29.28  
 दिशा स्थान  
 दिशा परिवर्तन 1098.8

दिशा दिखाना  
 निदेशन करना 347.9  
 दिशा न बदलना  
 दिशा न बदलना 1098.17 ⇌  
 दिशा न सूझना  
 दुविधा में होना 501.5  
 दिशा नियंता  
 कर्णधार 1080.19  
 विमान दिशा नियता 1074.25  
 दिशा नियंत्रक  
 कर्ण 1073.2  
 दिशा नियंत्रण  
 कर्ण धारण 1080.6  
 दिशा नियंत्रण चक्र  
 दिशा नियंत्रण चक्र 1077.41 ⇌  
 दिशा निर्देश  
 दिशा संकेत 29.25  
 दिशा निर्देशक  
 निदेशक 347.17  
 मार्ग प्रदर्शक 1098.4  
 दिशा निर्देशन  
 निदेशन 347.3  
 मार्ग प्रदर्शन 1098.3  
 दिशा निर्धारक  
 दिशा निर्धारक 29.24 ⇌  
 दिशा निर्धारण  
 दिशा निर्धारण 29.23 ⇌  
 दिशानुगमन  
 दिशानुगमन 1098.7 ⇌  
 दिशानुगमन करना  
 दिशा न बदलना 1098.17  
 दिशानुगामी  
 दिशानुगामी 1098.24 ⇌  
 दिशानुशीलन  
 दिशानुगमन 1098.7  
 दिशानुसरण  
 दिशानुगमन 1098.7  
 दिशानुसर्ता  
 दिशानुगामी 1098.24  
 दिशानुसार  
 अनुदिशात 1098.29  
 दिशा पकड़ना  
 दिशा न बदलना 1098.17  
 दिशा पटल  
 रोड साईन 442.16  
 दिशापति  
 लोकपाल 780.6  
 दिशा परिवर्तन  
 दिशा परिवर्तन 1098.8 ⇌  
 दिशा पाल  
 लोकपाल 780.6  
 दिशा बदलना  
 दिशा बदलना 1098.18 ⇌  
 दिशाभिमुख  
 दिशानुगामी 1098.24  
 दिशाभिमुखता  
 दिशानुगमन 1098.7

दिशा भ्रम  
 मार्ग भ्रम 1099.1  
 लक्ष्य भ्रम 931.13  
 दिशा मंडल  
 क्तिज 2.4  
 दिशा मंडल 29.21 ⇌  
 दिशा में  
 दिशा में 29.35 ⇌  
 दिशा में जाना  
 दिशा न बदलना 1098.17  
 दिशा मैदान  
 शीघ्र स्थान 216.17  
 दिशा यंत्र  
 कुतुबनुमा 29.20  
 दिशा यंत्र 29.18 ⇌  
 दिशायुक्त  
 आयामयुक्त 964.20  
 दिशायुक्तता  
 आयामयुक्तता 964.2  
 दिशायोग  
 अनुकूल दिशायोग 262.13  
 दिशा लेना  
 दिशा न बदलना 1098.17  
 दिशावकाश  
 दिशावकाश 29.22 ⇌  
 दिशावर  
 सीमेतर क्षेत्र 34.5  
 दिशा विचार  
 दिशा विचार 262.12 ⇌  
 दिशाव्रत  
 प्रतिकूल दिशायोग 262.14  
 दिशाशूल  
 प्रतिकूल दिशायोग 262.14  
 दिशा संकेत  
 दिशा संकेत 29.25 ⇌  
 दिशा सुंदरी  
 दिशा सुंदरी 29.2 ⇌  
 दिशाहीन  
 आयामहीन 964.21  
 उद्देश्यहीन 509.4  
 दिशाहीन 1099.11 ⇌  
 नेताहीन 346.6  
 योजनाहीन 520.21  
 लक्ष्य भ्रमित 931.24  
 दिशाहीनता  
 आयामहीनता 964.3  
 उद्देश्यहीनता 509.2  
 दिशाहीनता 1099.3 ⇌  
 योजनाहीनता 520.15  
 दिशोभ  
 दिग्गज 780.1  
 दिशोन्मुख  
 दिशानुगामी 1098.24  
 दिश्य  
 देशिक 29.28  
 दिष्ट  
 उद्देश्य 508.2  
 काल 36.1

दीक्षित 321.38  
 नियत 68.16  
 परिभाषित 317.17  
 प्रारब्ध 260.1  
 वर्णित 449.24  
 दिष्टता  
 नियतता 68.8  
 दिष्णु  
 दान दाता 641.24  
 दानी 641.27  
 दिसेंबर  
 ईसवी मास सूची 43.4  
 दिसपुर  
 असम राजधानी 28.12  
 दिसावर  
 परदेश 34.11  
 प्रवास स्थान 618.13  
 सीमेतर क्षेत्र 34.5  
 दिसावरी  
 आप्रवासी 618.30  
 दिहाड़ी  
 रोज़दारी आय 643.16  
 दिहाड़ी काम  
 रोज़दारी 643.15  
 दिहाड़ीदार  
 रोज़दार 643.17  
 दीक्षक  
 धर्म दीक्षक 742.26  
 दीक्षण  
 शिक्षण 321.18  
 दीक्षांत  
 दीक्षांत 321.6 ⇌  
 विद्यांत संस्कार 798.24  
 दीक्षांत समारोह  
 दीक्षांत समारोह 321.7 ⇌  
 समापन समारोह सूची 522.8  
 दीक्षांत समारोह सूची  
 दीक्षांत समारोह सूची 321.8 ⇌  
 दीक्षांत स्नान  
 दीक्षांत समारोह सूची 321.8  
 दीक्षा  
 उपनयन संस्कार 798.20  
 दीक्षा 321.5 ⇌  
 धर्म उपदेश 742.5  
 धर्म दीक्षा 742.9  
 शिक्षा 321.1  
 शिक्षा आरंभ 321.2  
 शिक्षा आरंभ सूची 321.3  
 दीक्षा गुरु  
 धर्म दीक्षक 742.26  
 धर्माचार्य 790.2  
 दीक्षा देना  
 धर्म दीक्षा देना 742.19  
 दीक्षापति  
 सोम देव 773.49  
 दीक्षित  
 दीक्षित 321.38 ⇌  
 धर्म दीक्षित 742.25

## दीक्षित करना

शिक्षित 321.41  
दीक्षित करना  
धर्म दीक्षा देना 742.19

## दीखाना

दृश्य होना 282.15  
स्पष्ट होना 822.13

## दीगर

असदृश 310.6  
इतर 945.5

## दीधी

बड़ी नीका 1072.14

## दीठ

नज़र 711.5

## दीठबंदी

नज़रबंदी 474.17

## दीठवंत

दृष्टियुक्त 282.18  
बुद्धिमान 301.21

## दीठ वाला

दृष्टियुक्त 282.18

## दीठि

दृष्टि 282.1

## दीक

नेत्र मल 215.9

## दीब

अवलोकित 284.47

## दीबा

दृष्टि 282.1

## दीब

नेत्र 141.1

## दीवार

ईश्वर दर्शन 749.36

भेंट 436.4

## दीवी

बड़ी बहन 723.10

## दीदे बटकाना

धितयन बघल करना 284.35

## दीदे लकना

प्रेम होना 368.12

## दीधति

प्रकाश किरण 288.1

## दीधिति

उँगली 150.13

## दीन

असमृद्ध 627.16

इसलाम धर्म 736.1

कातर 380.11

दम्य 518.23

दयनीय 834.16

दुःखी 391.24

दुर्दशाग्रस्त 627.22

धर्म 735.1

निर्धन 627.20

विनम्र 733.19

## दीन इलाही

दीन इलाही 736.15 ⇨

## दीन ईमान

धर्म 735.1

## दीनतः

विनम्रतः 733.23

## दीनता

दम्यता 518.11  
दयनीयता 834.7  
दुःखग्रस्तता 391.2  
नगण्यता 853.3  
निर्धनता 627.5  
पराधीनता 901.1  
विनम्रता 733.8  
हीनता ग्रंथि 352.8

## दीनदयाल

दीनदयालु 641.29

## दीनदयालु

दीनदयालु 641.29 ⇨

## दीनदार

धर्मशील 735.13  
नमाज़गुज़ार 751.11

## दीन दुःखी

दुःखी 391.24

## दीन दुनिया

दो लोक 258.2

## दीनबंधु

दीनदयालु 641.29

## दीनलोचन

बिल्ली 127.56

## दीनवत्सल

दीनदयालु 641.29

## दीन हीन

अकुलीन 728.16

दयनीय 834.16

दुःखी 391.24

नगण्य 853.10

## दीनानाथ

ईश्वर 764.1

दीनदयालु 641.29

## दीनी

इसलामी 736.29

## दीपंकर

आलोकक 285.46

बोधिसत्त्व सूची 793.16

## दीप

दीपक 285.13

घोडशोषघार सूची 750.4

## दीपक

आलोकक 285.46

दीपक 285.13 ⇨

प्रकाश उपकरण 285.6

राग रागिणी सूची 457.24

## दीपक जलाना

उद्घाटन करना 693.6

## दीपक ज्वाला

दीपक ज्वाला 285.18 ⇨

## दीपक बाती

दीपक बाती 285.17 ⇨

## दीपक बुझाना

दीप बुझाना 286.12

## दीप जलाना

दीप जलाना 285.40 ⇨

## दीप ज्योति

दीपक ज्वाला 285.18

## दीप दिखाना

आरती करना 749.44

## दीपन

अग्नि वर्धन 107.3

तगर 274.22

दीप प्रज्वलन 285.4

पाचकता वर्धन 178.4

## दीपनी

अजवायन 281.7

## दीप प्रज्वलन

दीप प्रज्वलन 285.4 ⇨

## दीप बुझाना

दीप बुझाना 286.12 ⇨

## दीप माला

दीवाली 57.15

## दीप वृक्ष

दीप स्तंभ 285.19

## दीप शिखा

दीपक ज्वाला 285.18

## दीप स्तंभ

दीप स्तंभ 285.19 ⇨

प्रकाश स्तंभ 285.31

## दीपाधार

दीपाधार 285.20 ⇨

## दीपाराधन

आरती वदन 1059.17

## दीपाली

दीवाली 57.15

## दीपावली

दीवाली 57.15

## दीपौत्सव

दीवाली 57.15

## दीप्त

आलोकित 285.45

ऊर्जायित 101.14

दीप्त 287.34 ⇨

## दीप्तवर्ण

दीप्तांग 157.11

## दीप्त स्वर

स्वर अलंकार सूची 465.11

## दीप्त होना

आलोकित होना 285.38

दीप्त होना 287.27 ⇨

## दीप्तांग

दीप्तांग 157.11 ⇨

दीप्तांग [दीप्तांगिनी]

दीप्तांग 157.11

## दीप्ता

शिकाकाई 220.26

## दीप्ति

अंग दीप्ति 157.6

अंतरबंधता 285.34

काव्य गुण सूची 453.4

तेजस्विता 839.5

दीप्ति 287.16 ⇨

प्रकाश 287.1

लाक्षा 290.26

शोभा 226.1

## दीप्ति (दे.)

रग आभा 289.2

## दीप्तिकर

आलोकक 285.46

## दीप्ति चक्र

तेजोमंडल 839.7

## दीप्तिमय

आलोकित 285.45

## दीप्तिमान

दीप्त 287.34

शोभायुक्त 226.11

## दीप्तिशाली

दीप्त 287.34

## दीप्तिहीन

धुंधला [धुंधली] 286.17

## दीप्तिहीनता

धुंधलापन 286.8

## दीप्यक

पाचकता वर्धक 178.9

## दीप

आलोकित 285.45

## दीबाधा

भूमिका 447.8

## दीपक

कीट सूची 122.12

दीपक 122.29 ⇨

## दीया

दीपक 285.13

## दीया बाती

दीपक बाती 285.17

## दीयासलाई

माघिस 107.7

## दीर्घ

अधिक 944.5

उच्च 982.7

दीर्घ मात्रा युक्त 410.23

बृहत् 979.15

विस्तीर्ण 981.10

व्यापक 981.12

## दीर्घ अवकाश

दीर्घ अवकाश 494.17 ⇨

## दीर्घ आयु

दीर्घ आयु 229.6 ⇨

## दीर्घकाय

लबा मोटा 154.17

## दीर्घ काल

दीर्घ काल 37.5 ⇨

## दीर्घ काल तक

दीर्घ काल तक 37.11 ⇨

## दीर्घ काल तक रहना

दीर्घ काल तक रहना 37.6 ⇨

## दीर्घ काल में

विलंबतः 495.16

**दीर्घ कालीन**  
दीर्घ कालीन 37.10 ⇨  
**दीर्घ कालीनता**  
अनस्वरता 37.3  
दीर्घ कालीनता 37.4 ⇨  
**दीर्घश्रीव**  
ऊँट 127.27  
**दीर्घजंघ**  
ऊँट 127.27  
बगला 126.54  
**दीर्घ जीविता**  
दीर्घायुता 229.7  
**दीर्घ जीवी**  
दीर्घ कालीन 37.10  
दीर्घायु 229.19  
**दीर्घतपा**  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
**दीर्घ तरंग**  
लीग वेव 1040.11  
**दीर्घतर**  
ताड़ 13.8  
**दीर्घता**  
उच्चता 982.1  
दीर्घ कालीनता 37.4  
बृहता 979.1  
लंबाई 965.2  
विस्तीर्णता 981.1  
**दीर्घदृष्टि**  
गिद्ध 126.26  
दूरदर्शी 301.35  
**दीर्घनाद**  
नर मुरगी 126.65  
शंख 461.78  
**दीर्घपत्री**  
पलारा 13.13  
**दीर्घ मात्रा**  
दीर्घ मात्रा 410.15 ⇨  
**दीर्घ मात्रा युक्त**  
दीर्घ मात्रा युक्त 410.23 ⇨  
**दीर्घरागा**  
हलदी 281.38  
**दीर्घरोमा**  
रीछ 127.80  
**दीर्घवार्ताकी**  
बँगन 189.29  
**दीर्घ वृत्त**  
अंडवृत्त 972.2  
**दीर्घ श्वास**  
दीर्घ श्वास 245.8 ⇨  
**दीर्घां**  
चित्रशाला 869.12  
बड़ी नौका 1072.14  
**दीर्घाकार**  
लंब आयताकार 969.16  
**दीर्घायत**  
लंब आयताकार 969.16  
**दीर्घायु**  
दीर्घ कालीन 37.10

**दीर्घायु 229.19 ⇨**  
**दीर्घायुता**  
दीर्घायुता 229.7 ⇨  
**दीर्घायुध**  
भाला 925.4  
**दीर्घायु यज्ञ**  
दीर्घायु यज्ञ 229.9 ⇨  
**दीर्घायुष्काम**  
दीर्घायुष्काम 229.20 ⇨  
**दीर्घायुष्कामी [दीर्घायुष्कामिनी]**  
दीर्घायुष्काम 229.20  
**दीर्घायुष्य**  
दीर्घ आयु 229.6  
दीर्घ कालीनता 37.4  
दीर्घायु 229.19  
दीर्घायुता 229.7  
**दीर्घायुष्य कामना**  
दीर्घायुष्य कामना 229.8 ⇨  
**दीर्घायुष्य यज्ञ**  
दीर्घायु यज्ञ 229.9  
**दीर्घाकरण**  
बृहदीकरण 979.2  
**दीर्घ**  
तड़का [तड़की] 544.20  
**दीवट**  
दीपाधार 285.20  
**दीवाकीर्ति**  
घाडाल 254.10  
**दीवान**  
अधिदेशन 694.14  
कार्यालय 654.3  
काय संकलन 446.24  
कोशाध्यक्ष 630.12  
खालसा दीवान 745.29  
तरख्त 595.27  
दरबार भवन 695.8  
दीवान 594.9 ⇨  
धर्म सभा 894.3  
प्रधान मंत्री 889.21  
राज दरबार 889.14  
रज [बनी] पत्तन (कक्क) सूची 882.10  
लेखापाल 632.32  
संग्रह 669.2  
सचिव 652.23  
सत्ता आसन 595.8  
सिंहासन 595.9  
सीटी 595.29  
**दीवान आम**  
दरबारे आम 695.9  
**दीवान खाना**  
झाड़ग रूप 614.16  
दीवान खाका 614.17 ⇨  
**दीवान ख़ास**  
दरबारे ख़ास 695.10  
**दीवानगी**  
चंद्रोन्माद 354.6  
प्रेमासक्ति 368.8  
मतांधता 343.11

**दीवान घर**  
दीवान खाना 614.17  
**दीवाना**  
प्रेमासक्त 368.21  
प्रेमी 368.2  
**दीवाना [दीवानी]**  
पागल 354.24  
मतांध 343.18  
मदोन्मत्त 211.15  
**दीवानापन**  
पागलपन 354.14  
सनक 353.10  
**दीवाना होना**  
प्रेमासक्त होना 368.15  
सम्भोहित होना 367.4  
**दीवानी**  
प्रेमिका 368.3  
सिविल न्यायालय 874.7  
**दीवानी अदालत**  
सिविल न्यायालय 874.7  
**दीवार**  
दीवार 607.1 ⇨  
विभाजन रेखा 968.12  
विभाजन सीमा 1001.7  
**दीवार उठाई**  
घिनाई 599.24  
**दीवार: ऊँचाई पर बनी कोठरी**  
दुरगारी 670.15  
**दीवार कील**  
दीवार: खूँटी 1016.17  
**दीवार: खूँटी**  
दीवार: खूँटी 1016.17 ⇨  
**दीवार घड़ी**  
दीवार घड़ी 50.25 ⇨  
**दीवार: चौड़ाई**  
दीवार चौड़ाई 965.7 ⇨  
**दीवाल**  
दीवार 607.1  
**दीवासा**  
दिवाला 646.8  
**दीवालिया**  
दिवालिया 646.19  
**दीवालियापन**  
दिवाला 646.8  
**दीवाली**  
दीवाली 57.15 ⇨  
दीवाली उत्सव समूह सूची 57.16  
नव वर्ष सूची 42.19  
**दीवाली उत्सव समूह सूची**  
दीवाली उत्सव समूह सूची 57.16 ⇨  
**दुंबुव**  
नगाडा 461.58  
बाम 125.9  
**दुंबुमि**  
दानव सूची 783.13  
वरुण 773.43  
**दुंबुमी**  
गंधर्व: स्त्री सूची 778.8

**दुंब**  
पशु पूँछ 151.10  
**दुंबा**  
दुंबा 127.26 ⇨  
पुच्छल 151.20  
**दुंबाल**  
कर्ण 1073.2  
नौका पुच्छ 1073.31  
पशु पूँछ 151.10  
**दुः-**  
दुःरा: उपसर्ग सूची 314.11  
**दुःख**  
खेद 380.1  
दुःख 391.1 ⇨  
रोग 163.1  
शोक 383.1  
**दुःखकर**  
दुःखद 391.25  
**दुःखकातर**  
अश्रुपूर्ण 387.7  
**दुःखगाथा**  
दुःखगाथा 391.4 ⇨  
**दुःखग्रस्त**  
दुःखी 391.24  
**दुःखग्रस्तता**  
दुःखग्रस्तता 391.2 ⇨  
**दुःखग्रस्त होना**  
दुःखी होना 391.18  
**दुःख त्रय**  
दुःख त्रय 391.5 ⇨  
**दुःखत्रय सूची**  
दुःखत्रय सूची 391.6 ⇨  
**दुःखत्राण**  
संकट मोघन 910.1  
**दुःखत्राता**  
संकट मोघक 910.10  
**दुःखद**  
दुःखद 391.25 ⇨  
पीडाप्रद 392.26  
मनोव्यथाकारी 391.27  
**दुःख धाम**  
दुःख धाम 391.3 ⇨  
**दुःख ध्वनि**  
शोक ध्वनि 383.4  
**दुःखन**  
शारीरिक पीडा 392.4  
**दुःख निवृत्ति: मार्ग**  
अष्टांग मार्ग 737.13  
**दुःख पाना**  
दुःखी होना 391.18  
**दुःखपूर्ण**  
दुःखपूर्ण 391.23 ⇨  
**दुःखप्रव**  
दुःखद 391.25  
**दुःख बँटना**  
सहानुभूति करना 393.11  
**दुःख बाँटना**  
सहानुभूति करना 393.11

## दुःख भरा

- दुःख भरा**  
दुःखी 391.24  
शोकपूर्ण 383.7
- दुःख भुलाना**  
शोक विस्मृत करना 393.17
- दुःख भूलना**  
शोक विस्मृत होना 393.16
- दुःख हरण**  
संकट मोचन 910.1
- दुःख हरना**  
संकट दूर करना 910.6
- दुःखहर्ता**  
संकट मोचक 910.10
- दुःखहीन**  
शोकहीन 382.24
- दुःखहीनता**  
शोकहीनता 382.9
- दुःखांत**  
टूजेडी 463.3
- दुःखान्वित**  
दुःखी 391.24
- दुःखायतन**  
आवागमन चक्र 246.3
- दुःखार्त**  
दुःखी 391.24
- दुःखित**  
कष्टग्रस्त 392.21
- दुःखी**  
दुःखी 391.24 ⇨  
दुर्दशाग्रस्त 627.22  
मनोव्यथित 391.26
- दुःखी करना**  
उत्पीडित करना 391.20
- दुःखी होना**  
दुःखी होना 391.18 ⇨
- दुःसह्यता**  
दुस्सह्यता 873.6
- दुःसाहस**  
दुस्साहस 394.3
- दुःस्वप्न**  
दुःस्वप्न 267.3 ⇨
- दु-**  
बुरा उपसर्ग सूची 314.11
- दुःख**  
दो 948.19
- दुःखन**  
दोनों 948.87
- दुःखी**  
दुःखी 629.16 ⇨
- दुःआ**  
आशीर्वाद 714.4  
दया 834.1  
प्रार्थना 350.4
- दुःआ करना**  
प्रार्थना करना 350.11
- दुःआवर्षी**  
द्वादशी 44.18

- दुःआव**  
दोआवा 25.6
- दुःआ मोगना**  
प्रार्थना करना 350.11
- दुःआल**  
घमड़ा तसमा 571.31
- दुःआ सलाम**  
अभिवादन 1060.1  
अल्प परिचितता 704.10
- दुःआ सलाम करना**  
अभिवादन करना 1060.26
- दुःआ चालामी**  
अल्प परिचित 704.24
- दुःआप्सी**  
द्वादशी 44.18
- दुई**  
दो 948.19  
द्वैत भाव 752.9
- दुई का परवा**  
द्वैत भाव 752.9
- दुओं**  
दोनों 948.87
- दुकका**  
जोड़ी 687.3
- दुककी**  
जोड़ी 687.3  
मित्र दुककी 705.5
- दुकल खेल**  
दुकल खेल 475.7 ⇨
- दुकान**  
दुकान 662.1 ⇨  
वितरण केंद्र 656.9
- दुकान बैला**  
शोपिंग बैग 673.10
- दुकानदार**  
दुकानदार 661.11 ⇨  
विक्रेता 661.2
- दुकानदार: आसन**  
दुकानदार: आसन 595.6 ⇨
- दुकानदार से मिला दलाल**  
छलिया दलाल 659.3
- दुकानबारी**  
दुकानदारी 661.10 ⇨  
विपणन 658.1
- दुकान बाला**  
दुकानदार 661.11
- दुकूल**  
उत्तरीय 585.7  
रेशमी वस्त्र 579.10
- दुकूलिनी**  
नदी 20.1
- दुकेला [दुकली]**  
द्वंद्वपर 896.14
- दुकका [दुककी]**  
द्वंद्वपर 896.14
- दुकका तिक्का**  
अल्प 942.13

- दुक्खन**  
शारीरिक पीड़ा 392.4
- दुख**  
दुःख 391.1
- दुखकर**  
दुःखद 391.25
- दुखगाथा**  
दुःखगाथा 391.4
- दुखका**  
दुःख 391.1  
दुःखगाथा 391.4
- दुखका रुचन**  
झींक 386.8
- दुखका रोना**  
झींकना 386.22
- दुखता [दुखती]**  
टीसता [टीसती] 392.29
- दुखद**  
पीड़ाप्रद 392.26
- दुख दर्ब**  
दुःख 391.1
- दुखन**  
शारीरिक पीड़ा 392.4
- दुखना**  
पीड़ा होना 392.18
- दुखपूर्ण**  
दुःखपूर्ण 391.23
- दुखमय**  
दुःखपूर्ण 391.23
- दुखांत**  
टूजेडी 463.3
- दुखाना**  
कष्ट देना 392.16
- दुखारी [दुखारी]**  
दुःखी 391.24
- दुखिया**  
दुःखी 391.24
- दुखियारी [दुखियारी]**  
दुःखी 391.24
- दुखी**  
खिन्न 380.10  
दुःखी 391.24  
रोगग्रस्त 162.5  
शोकग्रस्त 383.8
- दुखी करना**  
कष्ट देना 392.16
- दुखीला [दुखीली]**  
दुःखपूर्ण 391.23
- दुखार**  
पुत्री 718.10
- दुगई**  
बारहदरा 615.9
- दुगड्का**  
जोड़ी 687.3
- दुगड्की**  
जोड़ी 687.3
- दुगना [दुगनी]**  
दुगुना 949.43

- दुगाका**  
दोनाली बंदूक 927.5
- दुगामा**  
अन्वगति सूची 1084.24  
दुगामा चाल 1084.26
- दुगामा चाल**  
दुगामा चाल 1084.26 ⇨
- दुगासरा**  
शरण स्थल 910.5
- दुगुना**  
दुगुना 949.43 ⇨
- दुगुना [दुगुनी]**  
दुगुना 949.43
- दुगुनी मात्रा**  
दीर्घ मात्रा 410.15
- दुग्ध**  
दुग्धीय 193.17  
दुग्धरु 554.28  
दुग्हा [दुग्ही] 554.22  
दूध 193.2  
दूधिया 289.45  
वृक्ष निर्यास 84.8
- दुग्धदा**  
दुग्धरु 554.28
- दुग्ध दान**  
स्तन्य दान 207.14
- दुग्धन**  
दोहन 554.6-
- दुग्ध निर्जीवाणुकरण**  
पास्तेरीकरण 554.9
- दुग्ध पशु**  
दुग्ध पशु 554.17 ⇨
- दुग्ध पशु पालन**  
दुग्ध पशु पालन 554.1 ⇨
- दुग्ध पशु फार्म**  
डेरी फार्म 603.23
- दुग्ध पान**  
स्तन पान 207.13
- दुग्धपूर्णता**  
दुग्धरुता 554.18
- दुग्ध मौं**  
धाय मौं 720.2
- दुग्धमुखी**  
दुग्धमुँहा [दुग्धुँही] 230.32
- दुग्धवती**  
दुग्धरु 554.28
- दुग्ध विक्रेता**  
दूध विक्रेता 554.5
- दुग्धहीन**  
दुग्धहीन 554.29 ⇨
- दुग्धाग्र**  
मलाई 196.5
- दुग्धाशय**  
दुग्धाशय 146.11 ⇨
- दुग्धाहारी**  
दुग्धाहारी 204.9 ⇨
- दुग्धीय**  
दुग्धीय 193.17 ⇨

दुग्धोपजीवी  
दुग्धाहारी 204 9  
दुग्धिया  
मुहूर्त 49 10  
दुग्धरी  
मुहूर्त 49 10  
दुग्धद  
दुग्धना 949 43  
दुग्धितई  
दुग्धियाग्रस्तता 501 2  
दुग्धिता [दुग्धिता]  
दुग्धियाग्रस्त 501 8  
दुग्धनी  
टॉड 670 14  
मियानी 612 5  
दुग्ध  
दुग्धकार 855 5  
भर्त्सना उद्गार सूची 843 28  
दुग्धई  
दोतही चादर 593 24  
दुग्धकार  
दुग्धकार 855 5 ⇨  
धिक्कार 843 5  
दुग्धकार करना  
दुग्धकारना 855 9  
दुग्धकारना  
दुग्धकारना 855.9 ⇨  
धिक्कारना 843 16  
दुग्धकारा [दुग्धकारी]  
दुग्धकृत 855 15  
दुग्धकृत  
दुग्धकृत 855 15 ⇨  
दुग्ध दुग्ध  
दुग्धकार 855 5  
दुग्धरक्षा [दुग्धरक्षी]  
द्विपार्श्वीय 997 12  
दुग्धही  
दोतही चादर 593 24  
दुग्धकार  
जॉट 373 11  
दुग्धकार 855 5  
दुग्धकारना  
जॉटना 373 25  
दुग्धकारना 855.9  
दुग्धकृत  
दुग्धकृत 855 15  
दुग्धई  
धिया 189 19  
दुग्धमुँहा [दुग्धमुँही]  
दुग्धमुँहा [दुग्धमुँही] 230.32 ⇨  
दुग्धमुँहापन  
दुग्धमुँहापन 230 5 ⇨  
दुग्धईकी  
दुग्ध घड़ा 679.11  
पाक भांड सूची 682 2  
दुग्धकी  
दुग्ध घड़ा 679.11

दुग्धार  
दुग्धार 554 28  
दुग्धारता  
दुग्धारुता 554 18  
दुग्धारा  
दुग्धारी तलवार 924 8  
दुग्धारा [दुग्धारी]  
दुग्धारा [दुग्धारी] 997 13 ⇨  
दुग्धारी तलवार  
दुग्धारी तलवार 924 8 ⇨  
दुग्धारु  
दुग्धारु 554.28 ⇨  
दुग्धारुता  
दुग्धारुता 554 18 ⇨  
दुग्धारु  
दुग्धारु 554 28  
दुग्धिया  
दुग्धारु 554 28  
दुग्धैल  
दुग्धारु 554.28  
दुग्धाली  
दोनाली बद्दक 927 5  
दुग्धिया  
इहलोक 258 11  
पृथ्वी 9 1  
ब्रह्मांड 1 1  
लोक 258 1  
दुग्धिया का गोला  
पृथ्वी गोला 10 3  
दुग्धिया की सैर  
विश्वाटन 1090 12  
दुग्धियादार  
आसक्त 365 5  
गृहस्थ 235 3  
व्यवहार कुशल 828 10  
दुग्धियादारी  
आसक्ति 365 1  
व्यवहार कुशलता 828.3  
दुग्धियादारी छोड़ना  
सन्ध्यास लेना 233.9  
दुग्धियावी  
इहलौकिक 258 13  
व्यवहार कुशल 828 10  
व्यावहारिक 828 9  
संसार भागी 363 19  
दुग्धियासाज  
छली 827 24  
दुग्धियासाजी  
पाखंड 825 2  
दुग्धनी  
दुग्धना 949 43  
दुग्धट्टा  
उत्तरीय 585 7  
दुग्धलिया  
दुग्धलिया टोपी 584.12  
दुग्धलिया टोपी  
दुग्धलिया टोपी 584.12 ⇨

दुग्धत्ला [दुग्धत्ली]  
द्विपार्श्वीय 997.12  
दुग्धर  
मध्याह्न 47 9  
दुग्धरिया  
मध्याह्न 47 9  
दुग्धरी  
मध्याह्न 47 9  
दुग्धहला [दुग्धहली]  
द्विपार्श्वीय 997 12  
दुग्धकना  
त्राण पलायित होना 916 12  
प्रच्छन्न होना 824 18  
भयभीत होना 395 13  
दुग्धका [दुग्धकी]  
भूमिगत 824 23  
दुग्धधा  
दुग्धिया 501 1  
दुग्धला [दुग्धली]  
अबलिष्ट 159 12  
क्षीणकाय 159 13  
दुग्धलाना  
क्षीणकाय होना 159 7  
दुग्धलापतलापन  
क्षीणकायता 159.4  
दुग्धारा  
दूसरी बार में 73 10  
दुग्धारी  
छोटा द्वार 608 13  
उेवड़ी 608 11  
दुग्धाला  
दुग्धना 949 43  
दुग्धिया  
आशंका 377 1  
दुग्धिया 501 1 ⇨  
सदेह 341 3  
दुग्धिया (दे.)  
मार्ग भ्रम 1099 1  
दुग्धियाग्रस्त  
दुग्धियाग्रस्त 501.8 ⇨  
मार्गभ्रंत 1099 7  
दुग्धियाग्रस्तता  
दुग्धियाग्रस्तता 501 2 ⇨  
दुग्धियाग्रस्त होना  
दुग्धिया में होना 501 5  
दुग्धियाजनक  
दुग्धियाजनक 501.9 ⇨  
दुग्धियात्मक  
दुग्धियाजनक 501.9  
दुग्धियापूर्ण चिंतन  
विमर्श 330 11  
दुग्धिया मिटना  
दुग्धिया मिटना 500 7 ⇨  
दुग्धियामुक्त  
दुग्धियामुक्त 500.14 ⇨  
दुग्धियामुक्त होना  
दुग्धिया मिटना 500.7

दुग्धिया में होना  
दुग्धिया में होना 501.5 ⇨  
दुग्धिया मोचक  
निर्णयात्मक 328.11  
दुग्धियाहीन  
दुग्धियाहीन 500 13 ⇨  
दुग्धियाहीनता  
दुग्धियाहीनता 500.4 ⇨  
दुग्धल  
क्षीणकाय 159 13  
दुग्धालिया  
दुग्धालिया 427.26 ⇨  
दुग्धाली  
दुग्धालिया 427 26  
दुग्ध  
पशु पूँछ 151.10  
परचभाग 995 6  
पिछलगू 1096.13  
दुग्धलत्ला [दुग्धलत्ली]  
अनुगामी 345 7  
अनुचर 696 16  
पिछलगू 1096.13  
दुग्धलत्लापन  
पिछलगूपन 1096 4  
दुग्ध दबाना  
भयभीत होना 395.13  
दुग्धवार  
पुच्छल 151 20  
दुग्धवार सितारा  
धूमकेतु 3.9  
दुग्धहला  
दोखंडा भवन 602.22  
दुग्धाला  
सोतेली माता 717 11  
दुग्धुहा [दुग्धुही]  
द्विपार्श्वीय 997 12  
दुग्धना [दुग्धनी]  
पुच्छल 151 20  
दुग्धरंगा [दुग्धरंगी]  
दुग्धरंगा [दुग्धरंगी] 289.72 ⇨  
दुग्धरत  
अगम्य 519 25  
अदम्य 519 28  
अपारगम्य 1097 19  
दुग्धौघ्य 519 23  
दुग्धरता  
अदम्यता 519.12  
अपारगम्यता 1097 8  
दुग्धधा  
दोनाली बद्दक 927.5  
दुग्धध्र  
आरपार छिद्र 271.9  
दुग्धध्रज  
आरपार छिद्रण 271.5  
दुग्ध-  
दूरस्थ 32.7  
दुग्धक्ष  
कपट पासा 479.24

## दुरतिक्रम

### दुरतिक्रम

- अदम्य 519.28  
अपारगम्य 1097 19
- दुर**  
दुरकार 855.5
- दुरदुर** करना  
दुरतकारना 855 9
- दुरदुराना**  
दुरतकारना 855.9
- दुरदुराया [दुरदुराया]**  
दुरतकृत 855 15
- दुरक्षिगम**  
दुरलभ 942.19
- दुरना**  
गुप्त होना 824.13  
विलुप्त होना 824 17
- दुरन्ध**  
दुरांध्य 519 23
- दुरभिसंधि**  
सौतर्गोठ 827 9
- दुरमुट**  
दुरमुट 559.22 ⇨
- दुरमुस**  
दुरमुट 559.22
- दुरवत्था**  
दुःखप्रस्तता 391 2  
दुर्दशा 627 8
- दुरवार**  
दुरनिवार्य 919 10
- दुराकंद**  
आर्तनाद कर्ता 386 30  
विलाप कर्ता 386 31
- दुराक्रम**  
अनाक्रम्य 519 29
- दुराक्रमता**  
अदम्यता 519.12
- दुराक्रम्यता**  
अनाक्रम्यता 519 13
- दुरागम**  
कपट आय 643.6
- दुरागीन**  
गौना 800.11
- दुराग्रह**  
दुराग्रह 349.2 ⇨  
हठ 349 4
- दुराग्रह करना**  
दुराग्रह करना 349 7 ⇨
- दुराग्रही**  
दुराग्रही 349 12 ⇨
- दुराघार**  
घोटाला 865.8  
दुरश्चरित्रता 811 1  
विवाह अनिच्छा 806 1
- दुराघारिणी**  
दुरश्चरित्रा 811.6  
व्यभिचारिणी 806 11
- दुराघारिता**  
दुरश्चरित्रता 811.1

### दुराघारी

- घोटालेबाज 865.24  
दुर्जन 818.5  
दुरश्चरित्र 811.5
- दुराजकता**  
कुशासन 894 3
- दुराजकतापूर्ण**  
कुशासनपूर्ण 894.8
- दुरात्मा**  
अकल्याण कामी 711.11  
दुर्जन 818 5
- दुरादुरी**  
परजन भावना 725 4
- दुराधर्मता**  
अदम्यता 519.12
- दुराना**  
गोपन करना 824 14  
दूर करना 32 5
- दुराराध्य**  
दुराराध्य 400.22 ⇨
- दुरारुह**  
नारियल 13 11
- दुरारुह कल्पना**  
दुरारुह कल्पना 308.4 ⇨
- दुरारोह**  
ताड़ 13 8
- दुरालंभ**  
दुर्लभ 942 19
- दुरालभ**  
दुर्लभ 942 19
- दुरालाप**  
कुवचन 432.1  
गाली 433 3
- दुरारव**  
गोपन 824 1  
परजन भावना 725 4
- दुरावास**  
विष्णु 768 1
- दुराशय**  
दुराशय 818.9 ⇨  
दुर्जन 818 5
- दुराशयता**  
अकल्याण कामना 711 3  
दुराशयता 818 4 ⇨
- दुराशा**  
दुराशा 375.2 ⇨
- दुराशा (दे.)**  
आशाहीनता 376 1
- दुरासा**  
दुराशा 375.2
- दुरित**  
पाप 812 1
- दुरिता**  
पापिनी 812 13
- दुरिष्ट**  
तंत्र क्रिया 758.3
- दुरुक्ति**  
कुवचन 432.1

### दुरुष्ठा [दुरुष्ठी]

- द्विपाश्वीय 997.12
- दुरुपदेश**  
कुरपामर्श 332.2
- दुरुपभोग**  
दुरुपभोग 524 4 ⇨
- दुरुपयोग**  
दुरुपभोग 524 4
- दुरुस्त**  
अधिकृत 533 14  
उत्तम 313 11  
तर्कपूर्ण 325.21  
नैतिकतापूर्ण 815.5  
परिपूर्ण 313 14  
मरम्मत कृत 538 8  
संगत 438 6  
स्वस्थ 161 5  
स्वीकार्य 337 17
- दुरुस्त करना**  
सशोधन करना 537 8
- दुरुस्ती**  
मरम्मत 538 1  
सशोधन 537 4
- दुरुह**  
अगम्य 519 25  
अपठनीय 401 12  
दुरांध्य 519 23
- दुरेफ**  
भ्रमर 122 33
- दुरोदर**  
अक्ष घृत 481 3  
दोष 481 17
- दुरीध**  
दुरीध 273 5 ⇨  
प्याज 281 24
- दुरीधपूर्ण**  
दुरीधपूर्ण 273.16 ⇨
- दुरीध फैलाना**  
दुरीध फैलाना 273.9 ⇨
- दुरीधित**  
दुरीधपूर्ण 273.16
- दुरी**  
दुरी 620.7 ⇨
- दुरीत**  
कगाल 627.21  
दुर्दशा 627.8
- दुरी तरणी**  
सावित्री 774.97
- दुरीति**  
कंगाली 627 7  
दुर्दशा 627.8  
परक 259.6
- दुरी-परकोटा**  
दुरी परकोटा 604.14 ⇨
- दुरी परिष्ठा**  
परिष्ठा 604.20
- दुरीपाल**  
दुरीपाल 891.8 ⇨

### दुरी प्राचीर

- दुरी परकोटा 604.14
- दुरीम**  
अनाक्रम्य 519 29  
असमतल 987 6  
ईश्वर 764 1  
कठिन 519 18  
बीहड़ 987 9  
विष्णु 768 1

### दुरीमता

- अनाक्रम्यता 519 13  
असमतलता 987 1

### दुरीम पथ

- अचलनीय मार्ग 1063 3

### दुरीम भूमि

- असमतल भूमि 987 2

### दुरीम्य

- अगम्य 519 25

### दुरीम्यता

- अगम्यता 519 9

### दुरी यान

- टैक 1070 17

### दुरीत

- परिसर मार्ग 1063 22

### दुरी

- कालिका 776 2  
दुरी 776 7 ⇨  
नवकुमारी सूची 774 29  
पद्मदेव सूची 772 33  
पार्वती 776 9  
मनसा 774 62  
योग माया 771 82  
वीर स्त्री उपमान 396 4  
श्यामा 126 73

### दुरी अष्टमी

- दशहरा उत्सव समूह सूची 57 10

### दुरी देवी

- दुरी 776 7

### दुरीध्याना

- दुरीपाल 891 8

### दुरी नवमी

- दशहरा उत्सव समूह सूची 57 10

### दुरी पूजा

- दशहरा उत्सव समूह सूची 57.10

- दुरी पूजा 57 14 ⇨

### दुरी मंदिर

- काली मंदिर 745 33

### दुरी मूर्ति सूची

- दुरी मूर्ति सूची 746.4 ⇨

### दुरीध्वनी

- वीर स्त्री: उपमान 396 4

### दुरी धिक्कजन

- दशहरा उत्सव समूह सूची 57.10

### दुरी: सखी

- योगिनी 774 71

### दुरीकरण

- दुरीकरण 907 12 ⇨

दुर्गीय  
दुर्गीय 620.22 ⇨  
दुर्गुण  
दुर्गुण 314.4 ⇨  
दुर्गुणकारक  
दुर्गुणकारक 314.9 ⇨  
दुर्गुणहीन  
परिपूर्ण 313 14  
दुर्गुणहीनता  
परिपूर्णता 313 5  
दुर्गुणी  
दुर्गुणी 314.8 ⇨  
दुर्गेश  
दुर्गपाल 891 8  
दुर्गात्मव  
दुर्गा पूजा 57 14  
दुर्ग्रह  
अदम्य 519 28  
दुर्ग्राह्य  
दुर्बोध्य 519 23  
दुर्घट  
कठिन 519.18  
दुर्घटना  
दुर्घटना 168.2 ⇨  
दुर्घटना मृत्यु  
दुर्घटना मृत्यु 249.6 ⇨  
दुर्घोष  
रीछ 127 80  
श्रुतिकट्टु 294 26  
दुर्जन  
दुर्जन 818 5 ⇨  
दुर्जनता  
दुर्जनता 818.1 ⇨  
दुर्जय  
विष्णु 768 1  
दुर्जर  
कुपाध्य 178 7  
दुर्जात  
अकुलीन 728.16  
दुर्जाति  
कुस्वभावी 838 8  
निम्न कुल 728.8  
दुर्जय  
अदम्य 519 28  
दुर्जयता  
अदम्यता 519.12  
दुर्जय  
दुर्बोध्य 519.23  
दुर्जयता  
अबोध्यता 519.7  
दुर्वचन  
अदम्य 519 28  
दुर्वच्य  
अदम्य 519.28  
दुर्वच्यता  
अदम्यता 519.12  
दुर्वचं  
कुदुरय 282.21  
चकार्वाच पूर्ण 287.35  
दुर्वशा  
दुःखप्रस्तता 391.2  
दुर्वशा 627.8 ⇨  
दुर्वशाप्रस्त  
दुर्वशाप्रस्त 627.22 ⇨  
दुर्वशा होना  
दुर्वशा होना 627.13 ⇨  
दुर्वात  
अदम्य 519.28  
दुर्वातता  
अदम्यता 519 12  
दुर्दास  
अदम्य 519 28  
कठिन 519 18  
प्रबल 487.24  
दुर्दासता  
अदम्यता 519 12  
दुर्दिन  
अमंगल दिवस 797 4  
दुर्भाग्य 260 18  
दुर्मिक्ष 627.4  
मेघाच्छन्नता 55 7  
वर्षा दुर्दिन 54 4  
सकट काल 909.7  
दुर्दिवस  
अमंगल दिवस 797 4  
दुर्वृश्यता  
अस्पष्टता 823 1  
दुर्वच  
ईश्वरीय सकट 909.4  
ईश्वरीय सकट 909 4  
दुर्वशा 627.8  
दुर्भाग्य 260 18  
दुर्वुचन  
प्याज़ 281.24  
दुर्वचर  
नरक सूची 259.7  
पारा 94 9  
दुर्वचर्ष  
अदम्य 519.28  
धृष्ट 734.20  
राक्षस सूची 784 4  
दुर्वचर्षता  
अदम्यता 519.12  
धृष्टता 734.8  
दुर्नाम  
कुख्यात 848 4  
दुर्निग्रह  
दुर्निवार्य 919 10  
दुर्निमित्त  
अशुभ शकुन 282 3  
दुर्निवार  
दुर्निवार्य 919 10  
दुर्निवार्य  
दुर्निवार्य 919.10 ⇨  
दुर्नीति  
अनीतिकता 816.1

दुर्वचरित्रता 811.1  
दुर्वचल  
अत्याचार सहन कर्ता 835 14  
अबलिष्ठ 159 12  
क्षमताहीन 488 15  
क्षीणकाय 159 13  
दम्य 518 23  
शक्तिहीन 488 10  
दुर्वचलता  
अबलिष्ठता 159 3  
सुखंडी 163 38  
दुर्वबोध्य  
असमाधान्य 335 12  
दुर्वबोध्य 519 23 ⇨  
दुर्वबोध्यता  
अबोध्यता 519 7  
दुर्वचंग [दुर्वचंग]  
दुर्भाग्यशाली 260 34  
दुर्वचंगा  
कर्कशा 838.11  
दुर्वचंगी [दुर्वचंगिनी]  
दुर्भाग्यशाली 260 34  
दुर्वचंग्य  
अनाथता 719 1  
दुर्वशा 627.8  
दुर्वचंग्य 260.18 ⇨  
दुर्वचंग्य आगमन  
दुर्वचंग्य आगमन 260.19 ⇨  
दुर्वचंग्य आना  
दुर्वचंग्य आना 260.25 ⇨  
दुर्वचंग्यशाली  
दुर्वचंग्यशाली 260.34 ⇨  
दुर्वचव  
दुराशयता 818 4  
दुर्वचवना  
अकल्याण कामना 711 3  
वैमनस्य 706 10  
दुर्वचवना उत्पन्न होना  
वैमनस्य होना 706 14  
दुर्वचवपूर्ण  
वैमनस्त्वपूर्ण 706.21  
दुर्वचवी  
अकल्याण कामी 711.11  
दुर्वचि  
दुर्वचि 627 4 ⇨  
दुर्वचमता 942.5  
दुर्वचिप्रस्त  
दुर्वचिप्रस्त 627.19 ⇨  
दुर्वचैय  
अवेधेय 519.26  
दुर्वचिति  
दुर्जन 818.5  
दुर्वचनस्कृता  
दुराशयता 818 4  
दुर्वचना  
अकल्याण कामी 711 11  
दुर्वचर्ष  
दुस्सह्य 873.15

दुर्वचन  
दुस्सह्य 873 15  
दुर्वचर्ष  
मिठ 1063 46  
दुर्वचुच  
कटुभावी 432 12  
दुर्वचुच 770 39 ⇨  
राक्षस सूची 784.4  
शिव 767 1  
दुर्वचुट  
दुर्वचुट 559.22  
दुर्वचुत्त  
दुर्वचुत्त 559 22  
दुर्वचोंग  
अनुपयुक्त अवसर 70 4  
अमंगल काल 797 3  
कुसंयोग 69.3  
दुर्वचोष  
अयोध्य 519 30  
दुर्वचोषन  
अयोध्य 519 30  
दुर्वचोधन 771 60 ⇨  
शानि ग्रह 7 8  
दुर्वचोधन पक्षीय कुलवैरी जन  
कोरव 771 26  
दुर्वचोध्य  
अयोध्य 519.30  
दुर्वचोध्यता  
अयोध्यता 519 14  
दुर्वचोनि  
निम्न वर्णीय 731 33  
दुर्वचोष्य  
अगम्य 519.25  
दुर्वचष  
दुर्वचष 942.19 ⇨  
विलक्षण 312 16  
दुर्वचषतः  
दुर्वचषतः 942.25 ⇨  
दुर्वचषता  
दुर्वचषता 942.5 ⇨  
विलक्षणता 312 3  
दुर्वचष होना  
दुर्वचष होना 942.11 ⇨  
दुर्वचषित  
अत्यधिक लाडा 721.16  
धृष्ट 734.20  
दुर्वचषिताता  
अत्यधिक लाडापन 721.5  
दुर्वचलन  
अत्यधिक लाडा 721.4  
दुर्वचषित  
कुलिखित 412 48  
दुर्वचष्य  
कटु कृति 98.7  
दुर्वचषन  
कटु वचन 432.3  
कुवचन 432 1  
गाली 433.3

## दुर्वाचक

### दुर्वाचक

कटुभाषी 432 12

### दुर्वाचक योग

चीसठ कला सूची 397 4

### दुर्वाद

निंदा 843 1

### दुर्वादी

कटुभाषी 432 12

### दुर्वाय

दुर्निवार्य 919.10

### दुर्वासना

कामुकता 237 6

### दुर्वासा

ऋषि मुनि सूची 789 17

कुपेरित 589 28

शिव 767 1

### दुर्विकसित

कुपोषित 179.24

### दुर्विकास

कुपोषण 179 4

### दुर्विनय

धृष्टता 734 8

### दुर्विनीत

धृष्ट 734.20

### दुर्विषह

दुस्सह्य 873.15

### दुर्वृष्टि

अति वर्षा 54.6

दुर्मिक्ष 627 4

### दुर्व्यवस्था

अव्यवस्थितता 894 5

### दुर्व्यवहार

दुर्व्यवहार 831 1 ⇨

### दुर्व्यवहार करना

दुर्व्यवहार करना 831.6 ⇨

### दुर्व्यवहारी

दुर्व्यवहारी 831.10 ⇨

### दुर्व्यसन

कुव्यसन 812.7

### दुर्व्यसनी

कुव्यसनी 812.16

### दुलकना

मुकरना 338.25

### दुलकी

अश्वगति सूची 1084 24

दुलकी चाल 1084.27

हृत गति 1044 2

### दुलकी चाल

दुलकी चाल 1084.27 ⇨

### दुलकी

दो लकी. माला 228.41

### दुलती

दुलती 918.20 ⇨

### दुलती चाल

दुलकी चाल 1084 27

### दुलदुल घोड़ा

मुहरंम जुलूस 1088 13

### दुलन

दोलन 1037 8

### दुलराई

गोदी हुलराई 721 8

### दुलराना

गोदी मे हुलारना 721.11

लाड़ करना 721 9

### दुलराव

लाड़ 721 3

### दुलरुआपन

अत्यधिक लारूपन 721 5

### दुलहँडी

दुलहँडी 57.32 ⇨

### दुलहन

वधू 801 11

### दुलहा

वर 801 10

### दुलहिन

वधू 801 11

### दुलहिन सपुत्राल् से उसी दिन बापसी

अहोरा बहोरा 800 3

### दुलही

वधू 801.11

### दुलहेटा

प्रिय पुत्र 718 7

वर 801 10

### दुलाई

छोटा लिहाफ 593 14

### दुलाना

झकझोरना 1037.16

दोलन करना 1037.15

### दुलार

लाड़ 721 3

लाड़ा [लाड़ी] 721 15

वात्सल्य 721 1

### दुलारना

गोदी मे हुलारना 721 11

लाड़ करना 721 9

### दुलारा

प्रेमपात्र 369 4

### दुलारा [दुलारी]

लाड़ा [लाड़ी] 721 15

### दुलारा बेटा

प्रिय पुत्र 718 7

### दुलारी

प्रिय पुत्री 718 11

### दुलीचा

क्रालीन 593 37

### दुल्हन

वधू 801 11

### दुल्हन जोड़ा

वधू वस्त्र 802 23

### दुल्हा दुल्हिन

वर वधू 801 9

### दुल्हिन

वधू 801 11

### दुब

दो 948 19

### दुबाल

घपरास 571.6

### दुविधाहीनता

धीर्य 394 6

### दुशाला

दुशाला 585.18 ⇨

### दुश्चर

असमतल 987 6

बीहड़ 987 9

### दुश्चरित्र

दुश्चरित्र 811 5 ⇨

व्यभिचारी 806.10

### दुश्चरित्रता

दुश्चरित्रता 811.1 ⇨

### दुश्चरित्र होना

दुश्चरित्र होना 811 4 ⇨

### दुश्चरित्रा

दुश्चरित्रा 811 6 ⇨

व्यभिचारिणी 806 11

### दुश्चर्मा

जन्मत खतना कृत 798 48

### दुश्चितक

अकल्याण कामी 711 11

### दुश्चितन

अकल्याण कामना 711 3

### दुश्चिता

चिंता 377,2

### दुश्मन

शत्रु 706 2

### दुश्मनाई

शत्रुता 706.1

### दुश्मनाना

शत्रुतापूर्ण 706 15

### दुश्मनी

ठनाठनी 708 6

शत्रुता 706 1

### दुश्वार

कठिन 519.18

दुर्लभ 942.19

### दुश्वारी

कठिनता 519.1

दुर्लभता 942 5

### दुश्शासन

दुश्शासन 771.59 ⇨

### दुश्शील

कुस्वभावी 838.8

दुश्चरित्र 811 5

### दुष्कर

कठिन 519 18

### दुष्करता

कठिनता 519 1

### दुष्कर्म

दुष्कर्म 812.6 ⇨

### दुष्कर्म (दे.)

पाप 812 1

### दुष्कर्म करना

दुष्कर्म करना 812.9 ⇨

### दुष्कर्मा

दुष्कर्मी 812 15

पापी 812 12 .

### दुष्कर्मिणी

पापिनी 812 13

### दुष्कर्मी

दुर्जन 818 5

दुष्कर्मी 812.15 ⇨

### दुष्काम

अकल्याण कामी 711 11

### दुष्कामना

अकल्याण कामना 711 3

### दुष्कार्य

निकृष्ट कार्य 506 5

### दुष्काल

दुर्दशा 627 8

दुर्मिक्ष 627 4

दुर्लभता 942 5

प्रलय 530 1

सकट काल 909 7

### दुष्कीर्ति

कुख्याति 848.1

### दुष्कुल

निम्न कुल 728 8

### दुष्कुलीन

अकुलीन 728 16

### दुष्कृता

पापिनी 812 13

### दुष्कृत्य

अपराध 861 1

दुष्कर्म 812 6

### दुष्चरित्र

पापी 812 12

### दुष्चरित्रा

पापिनी 812 13

### दुष्ट

दुर्जन 818 5

दुश्चरित्र 811 5

पापी 812.12

विकृत 536 8

वैमनस्यपूर्ण 706.21

### दुष्ट [दुष्टा]

दुर्जन 818.5

नटखट 860 27

### दुष्ट अर्जुन

कैसर 167 4

### दुष्ट आचरण

दुश्चरित्रता 811.1

### दुष्टचेता

अकल्याण कामी 711 11

कुस्वभावी 838 8

### दुष्टता

अधमता 840.1

अपकारिता 831 5

दुर्जनता 818 1

### दुष्ट पात्र

खलनायक 467.9



- दुष्ट व्रण**  
नासूर 167 3
- दुष्ट साक्षी**  
दुष्ट साक्षी 876 16 ⇨
- दुष्ट स्वभाव**  
कुस्वभाव 838 1
- दुष्टस्वभाव**  
कुस्वभावी 838 8
- दुष्टहृदय**  
अकल्याण कामी 711 11
- दुष्टा**  
दुश्चरित्रा 811 3  
पापिनी 812 13
- दुष्टाचारिणी**  
दुश्चरित्रा 811 6
- दुष्टाचारिणी**  
दुश्चरित्र 811 5
- दुष्टात्मा**  
अकल्याण कामी 711.11  
दुर्जन 818 5  
पापी 812 12
- दुष्टान्न**  
अखाद्य आहार 197 2
- दुष्पत्र**  
कुपाध्य 178 7
- दुष्पाध्य**  
कुपाध्य 178 7
- दुष्पाठ्य**  
कुलिखित 412 48
- दुष्पार्य**  
अपारगम्य 1097 19
- दुष्पार्यता**  
अपारगम्यता 1097 6
- दुष्पोषण**  
कुपोषण 179 4
- दुष्पोषित**  
कुपोषित 179 24
- दुष्पाप्य**  
दुर्लभ 942 19
- दुष्प्रेरण**  
दुष्प्रेरण 861 9 ⇨
- दुष्फेनक जल**  
कठोर जल 88 2
- दुसर**  
दो लड़ी माला 228 41
- दुसरिहा**  
जोड़ीदार 687 24  
प्रतिद्वंद्वी 707.8  
सहकारी कर्मचारी 652 31
- दुसारा**  
आरपार छिद्र 271 9
- दुसाला**  
दुसाला 585 18
- दुस्तर**  
अगम्य 519.25  
अपारगम्य 1097.19  
कठिन 519.18
- दुस्तरता**  
अपारगम्यता 1097 6
- दुस्संधि**  
सौंठगौठ 827 9
- दुस्सह**  
दुस्सह्य 873 15
- दुस्सह्य**  
दुस्सह्य 873.15 ⇨
- दुस्सह्यता**  
दुस्सह्यता 873 6 ⇨
- दुस्साध्य**  
अधिकित्य 171.21  
कठिन 519 18
- दुस्साध्य काम में लगना**  
कठिन कार्य में लगना 487 16
- दुस्साध्य कार्य**  
कठिन कार्य 519 2
- दुस्साध्य कार्यक्षम**  
कठिन कार्यक्षम 487 28
- दुस्साध्यतः**  
कठिनत 519 31
- दुस्साध्यता**  
कठिनता 519 1
- दुस्साध्य होना**  
कठिन होना 519 15
- दुस्साहस**  
दुस्साहस 394 3 ⇨
- दुस्साहसी**  
जल्दबाज़ 496 12
- दुस्स्वभावी**  
कुस्वभावी 838 8
- दुह**  
दोहन 554 6
- दुहत्थक**  
दुहत्थक 918 18 ⇨
- दुहत्था**  
दुहत्थक 918 18  
दुहत्था 487.29 ⇨
- दुहत्था [दुहत्थी]**  
दुहत्था 487 29
- दुहत्थापन**  
दुहत्थापन 487 10 ⇨
- दुहना**  
अवशोषित करना 1002 20  
दुहना 554.19 ⇨  
निष्कषित करना 83 11  
शोषण करना 627 15
- दुहरा [दुहरी]**  
दुगुना 949 43
- दुहा [दुही]**  
दुहा [दुही] 554.22 ⇨  
निष्कषित 83.14
- दुहाई**  
अपील 875.13  
आवाहन 1055 1  
फ़रियाद 350.9  
शपथ 339.20
- दुहाई देना**  
फरियाद करना 350 14
- दुहाग**  
वैधव्य 804 14
- दुहागा [दुहागी]**  
दुर्भाग्यशाली 260 34
- दुहागिन**  
विधवा 804 15
- दुहागिल**  
दुर्भाग्यशाली 260 34  
शून्य अवस्था 79 2
- दुहिता**  
पुत्री 718 10
- दुहेजवी**  
दो बार विवाहित 799 69
- दुहेजिया**  
दो बार विवाहित 799 69
- दुहेजू**  
दो बार विवाहित 799 69
- दुहेरा [दुहेरी]**  
दुगुना 949 43
- दुहेल**  
सकट 909 1
- दुहेला**  
कठिन कार्य 519 2
- दुहेला [दुहेली]**  
कठिन 519 18  
कष्टग्रस्त 392 21  
दुखी 391 24  
सकटग्रस्त 909 19
- दुहोतरा**  
धेवता 722 36
- दुहोतरी**  
धेवती 722 37
- दूकान**  
दुकान 662 1
- दूकानदार**  
विक्रेता 661.2
- दूकानदारी**  
दुकानदारी 661 10
- दूज**  
द्वितीया 44 8  
माई दूज 57 17
- दूज का चौद**  
अर्ध चंद्रमा 8 6  
ईद का चौद 57 47  
दूज का चौद 407.15 ⇨
- दूजा [दुजी]**  
दूसरा [दूसरी] 948 86
- दूर्ज**  
द्वितीयो 44.8
- दूत**  
दूत 443.9 ⇨  
घावक संदेश वाहक 443.4  
पैरांबर 791.1  
प्रतिनिधि सूची 888.27  
राजदूत 443.10  
संदेश वाहक 443.3
- दूतक**  
दूत 443.9  
घावक संदेश वाहक 443 4  
संदेश वाहक 443 3
- दूत कर्म**  
दूत कर्म 443.8 ⇨
- दूतावास**  
राजदूतावास 443 13
- दूतिका**  
कुटनी 807.11
- दूती**  
कुटनी 807 11  
दूती 467 16 ⇨
- दूध**  
दूध 193 2 ⇨  
वृक्ष निर्यास 84 8  
स्त्री स्तन 146 7
- दूध उत्पाद**  
दूध उत्पाद 193.1 ⇨
- दूध ओटाई: मिट्टी का पात्र**  
कस्तूरी 682 9
- दूध की बोटल: चुसनी**  
चुसनी 684 2
- दूध घका**  
दूध घड़ा 679 11 ⇨
- दूध घुसाना**  
स्तन त्याग करना 207 18
- दूध जमाना**  
दही जमाना 554 20
- दूध दही**  
दूध उत्पाद 193 1
- दूधदानी**  
चाय काफ़ी बरतन सूची 680 20
- दूध दुहना**  
दुहना 554.19
- दूध पास्तेरीकरण**  
पास्तेरीकरण 554 9
- दूध पिलाई**  
स्तन दान 207 14
- दूध पिलाना**  
स्तन दान करना 207 17
- दूध पीता [दूध पीती]**  
दुधमुँहा [दुधमुँही] 230 32
- दूधपूत**  
आहार संपन्नता 626 2  
स्तन समष्टि 718 2
- दूध: बोटल**  
दूध बोटल 684 6 ⇨
- दूध मी**  
घाय मी 720.2
- दूध बाला**  
दूध विक्रेता 554.5
- दूध विक्रेता**  
दूध विक्रेता 554.5 ⇨
- दूधहीन**  
दुग्धहीन 554.29
- दूधिया**  
अपक्व (घनस्पति) 118.20

## दूधिया (दे.)

खरिया मिट्टी 100.13  
 दूध विक्रेता 554 5  
 दूधिया 289.45 ⇨  
 रत्न सूची 98.5  
**दूधिया (वे.)**  
 अति श्वेत 289 67  
**दूधिया रोटी**  
 शीरमाल 202.20  
**दूधी**  
 धिया 189 19  
**दून**  
 घाटी 16.16  
**दूना [दुनी]**  
 दुगुना 949 43  
**दूब**  
 घास 11 6  
 दूब घास 11 10  
**दूब घास**  
 दूब घास 11 10 ⇨  
**दूबदू**  
 अभिमुख 1023 9  
 आमने सामने 915 13  
**दूबर**  
 कठिन 519 18  
**दूबरता**  
 कठिनता 519 1  
**दूरंगम**  
 दूरगामी 1091 13  
**दूरदेश**  
 दूरदर्शी 301 35  
**दूरदेशी**  
 कूटनीति 819 1  
 दूरदर्शिता 301 16  
**दूर**  
 अनासन्न 67 11  
 असमक्ष 1022 6  
 तटस्थ 887.11  
 दूरस्थ 32 7  
 दूरस्थ तट 25 14  
 दूरी पर 32 10  
 वियोगी 388.8  
 सीमा के उस पार 1001.46  
**दूर करना**  
 दूर करना 32 5 ⇨  
 निवारण करना 920.14  
 विकर्षित करना 1050.26  
 विलग करना 1011 4  
**दूर का**  
 अर्धनिष्ठ 697 17  
**दूर का संबन्ध**  
 दूर का संबन्ध 437.4 ⇨  
**दूर का संबन्ध**  
 दूर का संबन्ध 437 4  
**दूर की आशा**  
 दुराशा 375.2  
**दूर की कौड़ी**  
 अटकल 947 3  
 दुरारुढ़ कल्पना 308 4

**दूर की जान पहचान**  
 अल्प परिचितता 704 10  
**दूर की नज़र**  
 दूर दृष्टि 282 5  
**दूर की झुझ**  
 अटकल 947 3  
**दूरकृत**  
 अपनीत 1053 13  
 विलगन 1011 5  
**दूर लिखना**  
 विकर्षित होना 1050.25  
**दूरगत**  
 दूरगत 1091 12 ⇨  
**दूरगामी**  
 दूरगामी 1091 13 ⇨  
**दूरगामी राकेट**  
 दूरगामी राकेट 1075.2 ⇨  
**दूर जाना**  
 विकर्षित होना 1050.25  
 वियोग होना 388 5  
**दूर तटवर्ती**  
 दूर तटवर्ती 25 32 ⇨  
**दूरता**  
 दूरता 32 1 ⇨  
 परजन भावना 725 4  
**दूरता अभाव**  
 निकटता 31 1  
**दूर दराज़**  
 दूरस्थ 32 7  
**दूर दराज़**  
 सुदूरस्थ 32 8  
**दूरदर्शक यंत्र**  
 दूरबीन 283 6  
**दूरदर्शन**  
 टेलीविज़न 472 22  
**दूरदर्शिता**  
 दूरदर्शिता 301 16 ⇨  
**दूरदर्शित्र**  
 दूरबीन 283 6  
**दूरदर्शी**  
 गिद्ध 126.26  
 दूरदर्शी 301 35 ⇨  
**दूर दूर**  
 बाहर बाहर 999 20  
**दूर दृष्टि**  
 दूर दृष्टि 282.5 ⇨  
**दूर पास गति**  
 झूला गति 1035 3  
**दूरबीन**  
 दूरबीन 283 6 ⇨  
**दूरभाव**  
 टेलीफोन 300.22  
**दूरभूत**  
 दूरगत 1091.12  
**दूरयान**  
 अंतरिक्ष यान 1075 6  
**दूरयात्री**  
 दूरगामी 1091.13

**दूर रहना**  
 समय पालना 808 11  
**दूरवर्ती**  
 परजनीय 725 7  
**दूरवाणी**  
 सँडियो 472 30  
**दूर शौट**  
 लीग शौट 472.20  
**दूरस्थ**  
 दूरस्थ 32 7 ⇨  
**दूरस्थ तट**  
 दूरस्थ तट 25 14 ⇨  
**दूर होना**  
 तटस्थ होना 887 8  
 दूर होना 32 4 ⇨  
 विकर्षित होना 1050 25  
 समक्ष न होना 1022 3  
**दूरार्थिक**  
 दूरस्थ 32 7  
**दूरारुढ़**  
 उच्चतम 982 8  
 दूरगत 1091 12  
**दूरारुढ़ संबन्ध**  
 दूर का संबन्ध 437 4  
**दूरारुढ़यान**  
 वर्जित दूर्य सूची 463 28  
**दूरी**  
 अतराल 33 9  
 अघनिष्ठता 697 6  
 असमक्षता 1022 1  
 तटस्थता 887.3  
 दूरता 32 1  
 दूरी माप 959 19  
 परजन भावना 725 4  
 प्रिय वियोग 388.3  
**दूरीकरण**  
 विकर्षण 1050 11  
**दूरी का दुःख**  
 वियोग दुःख 388 4  
**दूरी पर**  
 दूरी पर 32 10 ⇨  
**दूरी माप**  
 दूरी माप 959.19 ⇨  
**दूर्वा**  
 घास 11 6  
 दूब घास 11 10  
**दूल्हा**  
 वर 801 10  
**दूल्हा**  
 पति 803 5  
 वर 801.10  
**दूल्हा जोड़ा**  
 वर वस्त्र 802 24  
**दूषक**  
 दुर्गुणकारक 314 9  
 प्रदूषक 217.9  
**दूषण**  
 अनुबन्ध भंग 338.14

पूयन 169 9  
 प्रदूषण 217 3  
 राक्षस सूची 784 4  
 रावण भाई सूची 784 15  
 रोग सङ्क्रमण 169 8  
**दूषणारि**  
 राम 770 1  
**दूषित**  
 पूयित 169 15  
 प्रदूषित 217 8  
 मलिन 217 6  
 लांछित 843 23  
 विषाक्त 177 9  
 सड़ा [सड़ी] 197 48  
**दूषितता**  
 मलिनता 217 1  
**दूष्य**  
 निन्दनीय 843 21  
**दूसरा**  
 दूसरा [दूसरी] 948 86  
**दूसरा [दूसरी]**  
 असदृश 310 6  
 इतर 945 5  
 दूसरा [दूसरी] 948 86 ⇨  
 द्वितीय स्थानीय 707 12  
 विरोधी 886 7  
 वैकल्पिक 516.4  
**दूसरा आदमी**  
 प्रेम प्रतिद्वन्दी 368 4  
**दूसरा इनाम**  
 द्वितीय पुरस्कार 857 4  
**दूसरा छोर**  
 अन्य छोर 1000 4  
**दूसरापन**  
 परजन भावना 725 4  
 सीमातरता 1001 24  
**दूसरा पहर**  
 दिन दूसरा पहर 49 4  
**दूसरा बचपन**  
 वृद्धता 232 2  
 सतियायापन 353 13  
**दूसरा रास्ता**  
 विकल्प 516 1  
**दूसरा विवाह**  
 पुनर्विवाह 799.8  
**दूसरी ओर**  
 विमुखता 1023 16  
**दूसरी ओरत**  
 खलनायिका 467 13  
 प्रेम प्रतिद्वन्दिनी 368 5  
**दूसरी तरह**  
 वैकल्पिक विधितः 516 7  
**दूसरी प्रति**  
 अतिरिक्त प्रति 414.3  
**दूसरी बार में**  
 दूसरी बार में 73.10 ⇨  
**दूसरी मौ**  
 सीतेली माता 717.11

**दूसरे**  
दूसरी बार मे 73.10  
परजन 725 3

**दूसरे का**  
परजनीय 725 7

**दूसरे किनारे पर**  
उस पर 998 7

**दूसरे की न सुनना**  
अपनी ही बात कहना 435 17

**दूसरे लोग**  
परजन 725 3

**दूहा**  
दोहा 452 15

**दृगंचल**  
पलक 141 13

**दृगिन्द्रिय (आँख)**  
ज्ञानेन्द्रिय सूची 268 6

**दृगिन्द्रिय**  
दृष्टि 282 1  
नेत्र 141 1

**दृक्**  
अखण्डनीय 326 19  
अनम्य 1050 33  
अभजनशील 539 9  
अविचल 500 15  
आत्मविश्वासी 487 26  
आबद्ध 1013 22  
घनिष्ठ 704 27  
दीर्घ कालीन 37.10  
दृक्काय 160 12  
दृक्प्रतिज्ञ 339 45  
दृक्प्रतपूर्ण 343 13  
धैर्यशील 394 15  
प्रगाढ़ 81 14  
बलिष्ठ 160 10  
विष्णु 768 1  
सन्नद्ध 491 16  
सुदृक् 160 15  
स्थावर 1038 7

**दृक् आधारण**  
दृक् आधारण 1019 7 ⇨

**दृक् आधारित**  
दृक् आधारित 1019.21 ⇨

**दृक् आधारित करना**  
दृक् आधारित करना 1019 12 ⇨

**दृक्काय**  
दृक्काय 160 12 ⇨

**दृक्कायता**  
दृक्कायता 160.5 ⇨

**दृक्कायता**  
दृक्कायता 160 5

**दृक्कारी**  
अध्यवसायी 489.10  
दृक्प्रतिज्ञ 339.45  
परिश्रमी 493.9

**दृक्चित्त**  
स्थिरचित्त 355.6

**दृक्चेता**  
अविचल 500 15

**दृक्चरः**  
धैर्यपूर्वक 394 19  
सकल्पपूर्वक 500 16

**दृक्चता**  
अनश्वरता 37 3  
अयोध्यता 519.14  
अविचलता 500 5  
दीर्घ कालीनता 37 4  
दृक्प्रतता 343.2  
धैर्य 394 6  
सुदृक्ता 160 7

**दृक्प्रतपूर्वक**  
सकल्पपूर्वक 500 16

**दृक्प्रत से**  
धैर्यपूर्वक 394 19

**दृक्चन**  
दृक् आधारण 1019 7

**दृक् निश्चय**  
सकल्प 500.1

**दृक्निश्चयी**  
अविचल 500 15

**दृक्चनीर**  
नारियल 13 11

**दृक्प्रतिज्ञ**  
दृक्प्रतिज्ञ 339.45 ⇨

**दृक् प्रतिज्ञा**  
दृक् प्रतिज्ञा 339 18 ⇨

**दृक् प्रतिज्ञा**  
दृक् प्रतिज्ञा 339 18

**दृक् प्रवृत्ति**  
अध्यवसाय 489 4

**दृक्प्रतता**  
दृक्प्रतता 343.2 ⇨

**दृक्प्रतपूर्ण**  
दृक्प्रतपूर्ण 343 13 ⇨

**दृक्प्रतहीन**  
दृक्प्रतहीन 344.12 ⇨

**दृक् मनोबल**  
धैर्य 394 6

**दृक् विश्वास**  
दृक्प्रतता 343 2

**दृक्प्रत**  
दृक्प्रतिज्ञ 339 45

**दृक्प्रतता**  
अविचलता 500.5

**दृक्संकल्प**  
दृक्प्रतिज्ञ 339 45

**दृक्स्थ**  
सुदृक् 160 15  
सुस्थित 1020 10

**दृक् स्थित**  
सुदृक् 160.15

**दृक् होना**  
काया दृक् होना 160.8  
सुदृक् होना 160.9

**दृक्काय** 160.12  
हीरा 96 28

**दृक्काना**  
काया दृक् होना 160.8  
सुदृक् होना 160.9

**दृक्कानुगामी**  
दृक्प्रतपूर्ण 343 13

**दृक्कानुपालन**  
दृक्प्रतता 343 2

**दृक्कालूठ**  
आमूलित 117 21

**दृक्कालंबन**  
अविचलता 500 5

**दृक्कालंबी**  
अविचल 500 15

**दृक्कालंबी होना**  
विचलित न होना 500 8

**दृक्कीकरण**  
दृक्कीकरण 907 12

**दृक्प**  
दर्पी 858 13

**दृक्श**  
चाक्षुष 397 34  
चित्र 404 1  
दर्शनीय 400 13  
दृश्यमान 282 19  
नाटक दृश्य 463 26  
मच सज्जा 471.18  
मनोरंजक दृश्य 312 7  
विलक्षण वस्तु 312 6

**दृक्श अंत**  
यवनिका पात 606 3

**दृक्श अनुभूति**  
दृष्टि 282.1

**दृक्श आरंभ**  
यवनिका उत्थान 606 2

**दृक्शकक्ष**  
दृश्यकक्ष 614 25 ⇨

**दृक्श कला**  
चाक्षुष कला 397 8

**दृक्श काव्य**  
दृश्य काव्य 451.9 ⇨

**दृक्श चित्र**  
प्रकृति चित्र 404.4

**दृक्शतः**  
दृश्यतः 282.25 ⇨

**दृक्शयता**  
दृश्यता 282 9 ⇨  
- समक्षता 1021 1

**दृक्शय नाटक**  
मच नाटक 463 1

**दृक्शय चित्ति**  
यवनिका 606 1

**दृक्शय भू**  
प्रकृति चित्र 404 4

**दृक्शयमान**  
दृश्यमान 282.19 ⇨

**दृक्शय मिश्रण**  
फ़िल्म संपादन 472 21

**दृक्शय मौलान**  
फ़िल्म संपादन 472 21

**दृक्शय वर्णन**  
दृश्य वर्णन 449.5 ⇨

**दृक्शय संधानी**  
यू फ़्राइंडर 283.11

**दृक्शय सामग्री**  
मंच सामग्री 471 19

**दृक्शय होना**  
दर्शन देना 749 49  
दृश्य होना 282.15 ⇨

**दृक्शयप्र**  
फ़ोरग्राउंड 404 20

**दृक्शयवृथा**  
सिनीवाली 774 102

**दृक्शयवली**  
मंच सज्जा 471 18  
मनोरंजक दृश्य 312 7

**दृक्शयवली कक्ष**  
दृश्यकक्ष 614 25

**दृक्शद**  
पाषाण पटल 990 19

**दृक्शदती**  
ऋषि स्त्री सूची 789 25  
पौराणिक नदी सूची 20 23

**दृक्श**  
अवलोकित 284 47  
इन्द्रियार्थ 268 9  
उदित 5 28  
प्रकट 822 27  
प्रत्यक्ष दृष्ट 284 50  
सज्जात 441 18

**दृक्शद्वय**  
दर्शनीय 400.13

**दृक्शदंत**  
उदाहरण 309 6

**दृक्शदंत कथा**  
उपदेश कथा 450 14

**दृक्शदंत वाक्य**  
न्याय वाक्य 424 17

**दृक्शदंतहीन**  
अनुपम 312 17

**दृक्शद**  
अवलोकक 284 48  
तमाशाहीन 399 20  
धर्म शिक्षक 742 21

**दृष्टि**  
इच्छा 359 1  
दृष्टि 282.1 ⇨  
नेत्र 141.1  
भौप 301 14  
विचार 330.1  
विचार कोण 330.2  
साष्टांग दंडवतः अंग सूची 1080.9

**दृष्टि उपकरण**  
दृष्टि उपकरण 283.1 ⇨

## दृष्टि कर्म

### दृष्टि कर्म

अवलोकन 284 1

### दृष्टिकोण

पर्सपेक्टिव 404 19

मत 343.1

विचार कोण 330 2

### दृष्टि क्रम

दृष्टि क्रम 282.7 ⇨

पर्सपेक्टिव 404 19

### दृष्टि क्षमता

दृष्टि 282 1

### दृष्टि क्षेत्र

दृष्टि क्षेत्र 282.8 ⇨

### दृष्टिगत

अवलोकित 284 47

### दृष्टिगोचर

दृश्यमान 282 19

### दृष्टिगोचरता

दृश्यता 282.9

### दृष्टिगोचर होना

दृश्य होना 282 15

### दृष्टि पटल

रेटिना 141.9

### दृष्टिपात

अवलोकन 284 1

दृष्टिपात 284.15 ⇨

### दृष्टिपात करना

दृष्टिपात करना 284 42 ⇨

### दृष्टिबंध

नज़रबंदी 474 17

### दृष्टियुक्त

दृष्टियुक्त 282 18 ⇨

### दृष्टिवंत

ऋषि 789 2

दृष्टियुक्त 282 18

बुद्धिमान 301 21

विचारक 330 6

### दृष्टि विशेष

तिरछी चितवन 284.6

### दृष्टिहीन

अंधा [अंधी] 164 8

### दृष्टिहीनता

अधता 164 3

### दृष्टि होना

इच्छा होना 359 10

### दृष्टीप्रिय

नेत्र 141 1

### दृष्टीय

दृष्टीय 282 17 ⇨

### दे

देवी 774 1

नामांत स्त्री उपाधि सूची 856.9

### देई

देवी 774 1

नामांत स्त्री उपाधि सूची 856.9

### देउर

देवर 724.28

### देख कर

सावधानत 497 6

### देख कर खर्च करना

मित व्यय करना 644 14

### देख कर चलो

नारंगी बत्ती 1067 16

### देख कर भी न देखना

अनदेखा करना 284 32

### देखते

दृश्यत 282 25

### देखते देखते

व्यतीतत 74 5

शीघ्रत 496 13

### देखते भालते

दृश्यत 282 25

प्रत्यक्षत 284.55

### देखते रह जाना

आश्चर्य होना 379 5

### देखन

अवलोकन 284 1

### देख न पाना

चकावीध होना 287.29

### देखना

अनुभूति होना 263 7

अभिमुख होना 1023.5

दर्शन करना 749 48

दायित्व पालन करना 895 7

### देखना 284 30 ⇨

परीक्षा करना 322 33

प्रतिशोध लेना 873 8

प्रबंध करना 655 15

भोगना 363 9

विचार करना 330 13

संशोधन करना 537 8

### देखना भालना

प्रबंधन करना 655 15

### देखनि

अवलोकन शैली 284 4

### देखने योग्य

दर्शनीय 400 13

विचारणीय 330.20

### देखने वाला

अवलोकक 284.48

### देखभाल

अनुपेक्षा 184 2

इनविजिलेशन 322.18

निरीक्षण 284.16

पर्यवेक्षण 284 21

पालन पोषण 720 1

प्रबंध 655 5

रखरखाव 538 4

संरक्षा 908.3

संवर्धन 979 7

सत्कार 184.1

### देखभाल करना

उपेक्षा न करना 184.5

### देखरेखा

निरीक्षण 284.16

पर्यवेक्षण 284 21

संरक्षा 908 3

### देख लेना

प्रतिशोध लेना 873 8

### देखा [देखी]

अवलोकित 284 47

आज़माया [आज़माई] 524 17

### देखादेखी

अनुकरण 505 8

ताकड़ाक 284 12

### देग

देग 682.10 ⇨

पाक भांड सूची 682.2

### देगघा

देगघा 682.12 ⇨

### देगची

देगची 682.11 ⇨

पाक भांड सूची 682 2

### देगी मिर्च

देगी मिर्च 278 5 ⇨

### देजावू (फ्रां)

स्मृति विभ्रम 357.2

### देदीप्यमान

आलोकित 285 45

तेजोमंडित 839 11

दीप्त 287 34

वैभवशाली 226 15

### देन

उत्तमता. उपमान सूची 313 4

दान 641.1

प्रदान 638 1

मंगल उपहार 796.2

### देनदार

ऋणी 633.35

देयी 634.28

### देनदार बही

देनदार बही 632.16 ⇨

### देनदारी

देयता 634 4

### देनहार

ऋणी 633.35

देयी 634.28

### देना

उँडेलना 668.15

उपहार देना 640 10

घड़ाया घड़ाना 750.16

दान देना 641.19

देय 634 27

देयता 634.4

पशु पक्षी द्वारा प्रसव करना 244 12

प्रदान करना 638.6

शिक्षा देना 642.17

भुगतान करना 634.19

हस्तांतरित करना 638 12

### देने वाला

दान दाता 641.24

प्रदाता 638.15

### देय

ऋण 633 7

देय 634.27 ⇨

देय वस्तु 634 5

### देयता

देयता 634.4 ⇨

### देय पत्र

विल 632 28

### देय वस्तु

देय वस्तु 634 5 ⇨

### देयशेष

भुगतान शेष 639 2

### देयी

देयी 634 28 ⇨

### देर

काल 36 1

नियत काल 39 1

विलंब 495 1

### देर तक उबलना: क्रिया

औटन 91 4

### देर में

अनिकट भविष्य में 36 36

देर रात में 48 16

### देर में

विलंबत 495 16

### देर रात

देर रात में 48 16

### देर रात में

देर रात में 48.16 ⇨

### देर सबेर

अनिकट भविष्य में 36.36

### देरानी

देवराणी 724 29

### देरी

नियत काल 39.1

विलंब 495 1

समयोपरातता 62 4

### देरी से

विलंबत 495 16

### देरी से होना

समय के बाद होना 62.12

### देव

इंद्र 773.5

ईश्वर 764 1

तैत्तिरीय. उपमान सूची 948 63

देवता 772.1

देव दानव 783 16

देवर 724.28

नामांत पुरुष उपाधि सूची 856 8

राजा 882 6

### देव ऋण

ऋणत्रय सूची 761 15

### देव ऋषि

देवर्षि 789.6

### देवकक्ष

गर्भगृह 745.44

### देव कन्या

देव कन्या 774.2 ⇨

देव कानन  
देवता उद्यान 772.12  
देवकाय  
देवकाय 154.25 ⇨  
देवकाष्ठ  
देवदारु 13.10  
देवकिनी  
आकाश गगा 1.14  
शैवकी  
कृष्ण माता 771.6  
देवकी 771.61 ⇨  
शैवकी नंदन  
कृष्ण 771.1  
शैवकीय  
दैविक 772.40  
शैव कुंड  
प्राकृतिक जलाशय 18.5  
शैवकुल  
देवता समूह 772.7  
शैवखात  
प्राकृतिक जलाशय 18.5  
शैव गंधर्व  
देव गधर्व 778.9 ⇨  
शैव गंधर्वः माता  
मुनि 787.17  
शैव गण  
जन्म गण सूची 261.10  
देवता समूह 772.7  
शैव गणिका  
अप्सरा 782.2  
शैव गांधार  
राग रागिनी सूची 457.24  
शैव गायक  
गधर्व 778.3  
शैवगुरु  
बृहस्पति 789.22  
शैवगृह  
देव मंदिर 745.30  
शैव शिकित्सक  
अश्विनी कुमार 773.3  
दो उपमान सूची 948.20  
शैवछंद  
100 लक्ष्मी माला 228.45  
शैवजनी  
यक्षिणी सूची 779.14  
शैवता  
आदित्य 777.1  
देवता 772.1 ⇨  
देव मूर्ति 746.1  
शैवता (दे.)  
ज्ञानेन्द्रिय 268.5  
शैवता अस्त्र  
दिव्यस्त्र 928.1  
शैवताः आदि पुरुष  
दक्ष 787.2  
शैवताः आसन  
देवता आसन 595.7 ⇨

शैवताः उद्यान  
देवताः उद्यान 772.12 ⇨  
शैवताः उद्यान सूची  
देवता उद्यान सूची 772.13 ⇨  
शैवता ऋषि  
देवर्षि 789.6  
शैवताः कुतिया  
सरमा 787.23  
शैवता कूच कर जाना  
आतंकित होना 395.16  
शैवता चित्र  
देवता चित्र 404.3 ⇨  
शैव ताडक  
राहु 6.4  
शैवता तुल्य  
देवता तुल्य 772.41 ⇨  
शैवताः दिन  
उत्तरायण 5.17  
शैवता द्वारा असुरः वध  
असुर वध 251.4  
शैवताधिप  
प्रधान देवता 772.21  
शैवताः पत्नी  
देवता पत्नी 772.3 ⇨  
शैवता पद  
देवत्व 772.2  
शैवताः पुत्र  
देवता पुत्र 772.5 ⇨  
शैवताः पुत्री  
देवता पुत्री 772.6 ⇨  
शैवता पेय  
अमृत 177.1  
शैवताः पेय  
सोमरस 210.5  
शैवता प्रसाद  
देवोच्छिष्ट आहार 198.4  
शैवताः माता  
अदिति 787.7  
शैवता राक्षस  
विपरीतता उपमान सूची 310.13  
शत्रुता उपमान सूची 706.22  
शैवताः रात  
दक्षिणायन 5.18  
शैवताः वाणी  
देव वाणी 742.8  
शैवताः वाद्य  
तत्त वाद्य 461.17  
शैवताः विमान  
देवता विमान 772.14 ⇨  
शैवताः वैद्य  
देवता वैद्य 772.10 ⇨  
शैवता संख्या  
देवता संख्या 772.29 ⇨  
शैवताः संतान  
देवता संतान 772.4 ⇨  
शैवताः सभा  
देवता सभा 772.11 ⇨

शैवताः समूह  
देवता समूह 772.7 ⇨  
शैवताः सेना  
देवता सेना 772.8 ⇨  
शैवताः सेनानायक  
देवता सेनानायक 772.9 ⇨  
शैवताः स्त्री  
देवी 774.1  
शैवत्रयी  
त्रिमूर्ति 765.1  
शैवत्व  
देवत्व 772.2 ⇨  
शैवदत्त  
ईश्वर प्रदत्त 764.37  
बुद्ध चचेरा भाई 793.11  
शैव दर्शन  
तीर्थ यात्रा 1089.1  
देव दर्शन 749.37 ⇨  
शैव दर्शन पंडा  
पडा 744.4  
शैव दानव  
असुर आदि 783.3  
दानव 783.11  
देवकाय 154.25  
देव दानव 783.16 ⇨  
शैव दाना  
देव दानव 783.16  
शैवदार  
देवदारु 13.10  
शैवदारु  
देवदारु 13.10 ⇨  
नगर वृक्ष सूची 13.2  
शैवदास ग्रंथि  
मद्यपता 209.26  
शैवदासी  
देवदासी 744.9 ⇨  
वेरया 807.5  
शैव दुंदुभि  
इंद्र 773.5  
शैव दुंदुभी  
तुलसी 13.9  
शैवदूत  
देवदूत 782.1 ⇨  
शैवदेव  
ब्रह्मा 766.1  
शैव द्रोणी  
देव मूर्ति शोभा यात्रा 746.2  
शिवलिंग अरघा 746.15  
शैवधानी  
इंद्र नगर अमरावती 773.7  
शैव धाम  
तीर्थ स्थान 1089.10  
शैवधूप  
गुग्गुल 274.18  
साल 13.26  
शैवधन  
अक्ष द्यूत 481.3  
आदान प्रदान संबंध 636.2

क्रीडा उपवन 12.14  
प्रतियोगिता 707.2  
स्तोत्र 741.16  
शैव नर्तकी  
अप्सरा 782.2  
देवदासी 744.9  
शैवना  
अक्ष द्यूत 481.3  
क्रीडा 469.4  
देवी 774.1  
शैवनागरी  
शैवनागरी 409.8 ⇨  
शैवनागरीः मूल लिपि  
ब्राह्मी 409.10  
शैवनागरी हस्तलेख शैली सूची  
शैवनागरी हस्तलेख शैली सूची 4129.9 ⇨  
शैव निकाय  
देवता समूह 772.7  
शैवपथ  
आकाश गगा 1.14  
शैवपद मूर्ति  
विष्णुपद मूर्ति 746.8  
शैव परिक्रमा  
तीर्थ परिक्रमा 1089.4  
शैव परवत  
केलास शिखर 17.2  
सुगेरु 17.17  
शैवपुत्र  
देवता पुत्र 772.5  
शैव पुत्री  
इलायची 281.8  
देव कन्या 774.2  
देवता पुत्री 772.6  
शैवपुत्री  
इंद्र नगर अमरावती 773.7  
शैवपूज्य  
बृहस्पति 789.22  
शैव प्रदक्षिणा  
तीर्थ परिक्रमा 1089.4  
शैव प्रमुख  
प्रधान देवता 772.21  
शैव ब्राह्मण  
मंदिर कर्मा ब्राह्मण 731.16  
शैव मंदिर  
तीर्थ स्थान 1089.10  
देव मंदिर 745.30 ⇨  
शैव मणि  
कौस्तुभ मणि 96.16  
सूर्य 8.1  
शैव मासुक  
वर्षा सिंधित 548.56  
शैवभावन  
सोमरस 210.5  
शैव माया  
माया 762.9  
शैवमीढ शूर  
शूरसेन 771.92

## देव मूर्ते

### देव मूर्ति

देव मूर्ति 746.1 ⇨

देव मूर्ति: शोभा यात्रा

देव मूर्ति: शोभा यात्रा 746.2 ⇨

देव यजन

नैवेद्य 750.7

देव यज्ञ

यज्ञ सूची 753.2

देव यात्रा

देव मूर्ति: शोभा यात्रा 746.2

देव यान

देवता विमान 772.14

देवयानी: माता

देवसेना 774.47

देवयुग

सत्ययुग 40.12

देव योनि

अतिमानव 128.3

देवयोनि

जलावन 110.4

देव योनि

देव योनि 772.36 ⇨

देव योनि सूची

देव योनि सूची 772.37 ⇨

देवर

देवर 724.28 ⇨

परदा निषिद्ध संबंधी सूची 591.7

देव रथ

देवता विमान 772.14

देवरा

देव मंदिर 745.30

देवराज

इंद्र 773.5

देवरात

ऋषि मुनि सूची 789.17

परीक्षित 771.70

सारस 126.74

देवरानी

देवरानी 724.29 ⇨

देव रानी

शची 774.89

देव रिपु

असुर 783.6

देव रुधिर

देव रुधिर 131.2 ⇨

देव रुधिर (दे.)

कषलोद् 167.15

देवर्षि

देवर्षि 789.6 ⇨

देवल

देव मंदिर 745.30

मंदिर कर्मा ब्राह्मण 731.16

विष्णु मंदिर 745.35

देवल: माता

एकपर्णा 776.11

देव लोक

ग्रीक स्वर्ग 259.4

सात लोक 258.5

स्वर्ग 259.1

देववधू

देवी 774.1

देव वन

देवता: उद्यान 772.12

देववर्णा

कुबेर माता 779.6

देव वाणी

आकाश वाणी 465.5

देव वाणी 742.8 ⇨

देववाणी

संस्कृत भाषा 421.6

देव विवाह

देव विवाह 799.24

देव वैद्य

अश्विनी कुमार 773.3

देवव्रत

दृढप्रतिज्ञा 339.45

भीम 771.76

स्कंद 773.50

देवव्रत (प्रतिज्ञापूर्व नाम)

भीष्म 771.77

देव शिल्पी

विश्वकर्मा 773.44

देव शुनी

सरमा 787.23

देवश्री

लक्ष्मी 775.1

देवश्रुत

धर्म ग्रंथ 738.1

देव संतान

देवता सतान 772.4

देव सवन

पीपल 13.14

देव सभा

देवता सभा 772.11

देवसभ्य

अक्ष द्यूतकर 481.9

द्यूत निरीक्षक 481.12

देव सरखा [देव सरखी]

देवकाय 154.25

देव सरिता

गंगा नदी 20.10

देवसेनप

देवता सेनानायक 772.9

देवसेना

देवता सेना 772.8

देवसेना 774.47 ⇨

लक्ष्मी 775.1

देवसेना (दे.)

सिनीवाली 774.102

देवसेना पति

स्कंद 773.50

देवसेना: बहन

दैत्यसेना 774.48

देवस्वरूप

देवता तुल्य 772.41

देव हवि

बलि पशु 754.10

देवहृति

ऋषि स्त्री सूची 789.25

देवहेति

दिव्यास्त्र 928.1

देवांगना

अप्सरा 782.2

देवी 774.1

देवांश

अशावतार 769.3

देवा

हाय 386.12

देवागार

देव मंदिर 745.30

देवाचार्य

बृहस्पति 789.22

देवाजीव

मंदिर कर्मा ब्राह्मण 731.16

देवाजीवी

पुजारी 744.7

देवात्मा

देवता तुल्य 772.41

पीपल 13.14

देवाधिदेव

विष्णु 768.1

शिव 767.1

देवाधिप

ईश्वर 764.1

प्रधान देवता 772.21

देवाधीश्वर

इंद्र 773.5

देवानीक

देवता सेना 772.8

देवसेना 774.47

देवानुग्रह

ईश्वर दया 834.2

देवाग्र

हव्यात्र 753.26

देवायतन

देव मंदिर 745.30

देवायुध

इंद्रधनुष 55.8

दिव्यास्त्र 928.1

देवारि

असुर 783.6

दैत्य 783.17

देवार्थ प्रदत्त

घड़ावा चढ़ा 750.17

देवार्पण

घड़ावा 750.12

देवार्पित

घड़ावा 750.12

देवाल

देयी 634.28

देवालय

देव मंदिर 745.30

विष्णु मंदिर 745.35

देवा लेई

आदान प्रदान 636.1

देवासन

देवता आसन 595.7

देवासुर

सुर असुर 783.1

देवासुरेश्वर

शिव 767.1

देवाहन कर्ता

यज्ञ होता 753.16

देवाहार

हव्यात्र 753.26

देवाहुति

घड़ावा 750.12

देथिल

दैविक 772.40

धर्मशील 735.13

देवी

कुलीन स्त्री 728.7

डैविट 1073.29

दुर्गा 776.7

देव कन्या 774.2

देवता पत्नी 772.3

देवता पुत्री 772.6

देवी 774.1 ⇨

देवी 774.49 ⇨

नामात स्त्री उपाधि सूची 856.9

मातृसत्ता प्रमुख 688.6

राजा प्रधान पत्नी 882.18

लक्ष्मी 775.1

विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.6

वीर स्त्री उपमान 396.4

शक्ति 776.17

श्यामा 126.73

सरस्वती 775.8

साधु स्त्री 790.17

सावित्री 774.97

स्त्री उपाधि सूची 856.4

स्वय रानी 882.19

देवी आना

भूतबाधा होना: 759.17

देवी चढ़ना

भूतबाधा होना 759.17

देवी पूजक संप्रदाय

शाक्त संप्रदाय 737.52

देवी माता

देवी 774.49

देवीय

दैविक 772.40

दैवीय 733.15

देवी: शक्ति सूची

देवी: शक्ति सूची 774.50 ⇨

देवेंद्र

इंद्र 773.5

शिव 767.1

देवेच्छा

प्रारथ्य 260.1

देवेज्य  
बृहस्पति 789.22

देवेश  
इंद्र 773.5  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1

देवेशी  
देवी 774.1  
पार्वती 776.9

देवेश्वर  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1

देवेष्टा  
गुग्गुल 274.18

देवोच्छिष्ट आहार  
देवोच्छिष्ट आहार 198.4 ⇨

देवोद्यान  
देवता उद्यान 772.12

देवोपम  
देवता तुल्य 772.41

देवोपवन  
देवता उद्यान 172.12

देवोपहार  
देवोपहार 183.24 ⇨

देवी  
कृष्ण अर्जुन 771.52

देश  
क्षेत्र 34.1  
देश 34.10 ⇨  
दो आयाम 964.6  
मूल स्थान 618.12  
राग रागिनी सूची 457.24  
राष्ट्र 881.1  
स्थान 33.1  
स्वदेश 34.12

देश आचार व्यवहार  
देश परंपरा 795.6

देशक  
धर्म उपदेशक 742.22  
मार्ग प्रदर्शक 1098.4  
स्थानीय शासक 891.2

देशकाल  
दिवकाल 984.16

देश गांधार  
राग रागिनी सूची 457.24

देश धर्म  
स्थानानुसार आचरण 808.4

देशज शब्द  
उद्गमनानुसार शब्द सूची 423.4

देश दर्शन  
देशाटन 1090.9

देशद्रोह  
राष्ट्र द्रोह 827.6  
वर्जित दृश्य सूची 463.28  
स्वतंत्रता विरोध 904.14

देशद्रोही  
राष्ट्र द्रोही 827.21  
स्वतंत्रता विरोधी 904.15

देश धर्म  
देश परंपरा 795.6

देशान  
शासन कर्म 890.3

देशाना  
उपदेश 430.9  
धर्म उपदेश 742.5

देश निकाला  
देश निर्वासन 876.10

देश निर्गमानुमति पत्र  
देश निर्गमानुमति पत्र 1092.8 ⇨

देश निर्वासन  
देश निर्वासन 870.10 ⇨

देश निर्वासित  
देश निर्वासित 870.27 ⇨

देश निष्ठा  
राष्ट्र निष्ठा 826.5

देश परंपरा  
देश परंपरा 795.6 ⇨

देश प्रवेशानुमति  
देश प्रवेशानुमति 1094.9 ⇨

देश प्रवेशानुमति पत्र  
देश प्रवेशानुमति 1094.9

देश प्रेम  
राष्ट्र निष्ठा 826.5

देश प्रेमी  
राष्ट्रनिष्ठ 826.12

देश भक्त  
राष्ट्रनिष्ठ 826.12

देश भक्ति  
राष्ट्र निष्ठा 826.5

देश भ्रमण  
देशाटन 1090.9

देश रीति  
देश परंपरा 795.6

देशवासिता  
नागरिकता 883.1

देशवासी  
नागरिक 883.2

देश विभाजन  
देश विभाजन 699.5 ⇨

देश समय अंतर  
समय क्षेत्र अंतर 50.5

देश सेवक  
राष्ट्रनिष्ठ 826.12

देश सेवा  
राष्ट्र निष्ठा 826.5

देश स्तरीय  
देश स्तरीय 35.6 ⇨

देशांतर  
देशांतर 10.14

देशांतर  
परदेश 34.11  
सीमेतर क्षेत्र 34.5

देशांतरी  
परदेशीय 34.18

देशांतरीय  
परदेशीय 34.18

देशांतर  
देशांतर 10.14 ⇨

देशाचार  
देश परंपरा 795.6

देशाटन  
देशाटन 1090.9 ⇨  
पर्यटन 1090.6

देशावर  
सीमेतर क्षेत्र 34.5

देशिक  
धर्म उपदेशक 742.22

देशिनी  
तर्जनी 150.16

देशी  
देशीय 34.17  
स्वदेशीय 34.20

देशी ताल  
ताल प्रकार सूची 458.27

देशीय  
देश स्तरीय 35.6  
देशीय 34.17 ⇨

देशी राज्य (ब्रिटिश काल)  
देशी राज्य (ब्रिटिश काल) 881.6 ⇨

देशी संगीत (संगीत दर्पण)  
लोक संगीत 457.27

देश्टा  
वर्णन कर्ता 449.27

देश  
देश 34.10  
मूल स्थान 618.12  
स्वदेश 34.12

देश निकाला  
देश निर्वासन 870.10

देशवाल  
स्वदेश वासी 34.21

देशावरी  
परदेशीय 34.18

देशी  
देशी शराब 209.3  
स्वदेशीय 34.20

देशी शराब  
देशी शराब 209.3 ⇨

देशभर  
अत्याहारी 182.15

देश  
आकार रूप 967.5  
पिंड 976.1  
शरीर 139.1

देश कर्ता  
पंचभूत 78.8

देशकर्ता  
पिता 717.4

देश चिकित्सा  
व्यायाम चिकित्सा 172.19

देश चिह्न  
अंग चिह्न 261.35

देश घूटना  
मरना 249.18

देशजा  
पुत्री 718.10

देश दूटन  
देश शैथिल्य 492.5

देश दूटना  
देश शिथिल होना 492.12

देशत्याग  
मृत्यु 249.1

देश त्यागना  
मरना 249.18

देशत्राण  
कवच 921.2

देश धारण  
जन्म 248.1

देशधारी  
जीव 121.4  
साकार 967.12

देशनाशक  
मृत्युकारी 249.24

देश पाँचना  
अंगोचना 221.24

देश मल  
देश मल 215.1 ⇨

देश मल सूची  
देश मल सूची 215.2 ⇨

देशयष्टि  
क्रद क्रामत 154.1  
छरहरा शरीर 154.11

देशर  
नदी कछार 25.27

देशरा  
देव मंदिर 745.30

देशली  
चीखटः अधोकाष्ठ 809.3  
श्रोताः गृह 601.3

देश विकार  
रोग 163.1

देश शिथिल होना  
देश शिथिल होना 492.12 ⇨

देश शैथिल्य  
देश शैथिल्य 492.5 ⇨

देश संस्कार  
अंग रंजन 225.4

देशसार  
मज्जा 132.3

देश सुखाना  
अंगोचना 221.24

देश ही आत्मा है  
भौतिकतावाद 760.22

देशहीन  
निराकार 967.13

देशहीनता  
निराकारता 967.2

देशांत  
मृत्यु 249.1

देशांतर आगमन  
पुनर्जन्म 248.7

## देहातरण

**देहातरण**  
पुनर्जन्म 248 7  
**देहांतर प्राप्ति**  
पुनर्जन्म 248 7  
**देहात**  
ग्राम 620 1  
ग्राम क्षेत्र 620.2  
**देहातिन**  
ग्रामवासिनी 616 23  
**देहाती**  
ग्रामीय 620 20  
ग्राम्यतापूर्ण 734 18  
**देहातीत**  
धेतनाहीन 264 20  
निराकार 967 13  
**देहातीपन**  
ग्राम्यता 734 6  
**देहात्मवाद**  
भौतिकतावाद 760 22  
**देहावरण**  
परिधान 583.1  
**देहावसान**  
मृत्यु 249 1  
**देहिका**  
पिस्सु 122 30  
**देही**  
जीव 121.4  
शारीर 139.1  
साकार 967 12  
**देहीय**  
आकृतीय 967 16  
शारीरिक 139 11  
**देतेय**  
दैत्य 783 17  
दैत्यीय 783 32  
**दैत्य**  
दैत्य 783.17 ⇨  
दैत्यीय 783 32  
**दैत्य (दे.)**  
असुर आदि 783 3  
**दैत्यकाय**  
दैत्यकाय 154.24 ⇨  
**दैत्यघ्न**  
असुर नाशक 783 30  
**दैत्यता**  
असुरता 783 5  
**दैत्य नाशक**  
असुर नाशक 783 30  
**दैत्य मर्दक**  
असुर नाशक 783 30  
**दैत्य मर्दन**  
असुर नाश 783 10  
**दैत्यमर्दन**  
असुर नाशक 783 30  
**दैत्यः माता**  
दिति 787 16  
**दैत्यराज**  
बलि 769.37

**दैत्य विषयक**  
दैत्यीय 783 32  
**दैत्य सूची**  
दैत्य सूची 783 19 ⇨  
**दैत्यसेना**  
दैत्यसेना 774 48 ⇨  
**दैत्यसेनाः बहन**  
देवसेना 774 47  
**दैत्य स्त्री**  
दैत्य स्त्री 783 18 ⇨  
**दैत्यः स्त्री सूची**  
दैत्य स्त्री सूची 783.21 ⇨  
**दैत्या**  
मुरा 274 24  
**दैत्यादि**  
विष्णु 768 1  
**दैत्यीय**  
दैत्यीय 783 32 ⇨  
**दैत्येन्द्र**  
प्रह्लाद 769 22  
बलि 769 37  
हिरण्य कशिपु 769 25  
**दैर्नदिन**  
दैनिक 71 14  
विकास क्रम से 991 33  
**दैर्नदिनी**  
डायरी 41 5  
डायरी 415 16  
**दैर्निक**  
दैनिक 71.14 ⇨  
समाचार पत्र 445 1  
सामान्य 311 3  
**दैर्निक आहार**  
साधारण आहार 197 10  
**दैर्निक कर्म**  
नित्य कर्म 504 8  
**दैर्निक क्रियाकलाप**  
दैनिक गतिविधि 502 3  
**दैर्निक गतिविधि**  
दैनिक गतिविधि 502.3 ⇨  
**दैर्निकता**  
अनीपचारिकता 185 3  
**दैर्निक नरुदी**  
रोकड़ उचंत 630.10  
**दैर्निक पत्र**  
समाचार पत्र 445.1  
**दैर्निक बोली**  
प्रचलित बोली 421 3  
**दैर्निक भक्ता**  
दैर्निक भक्ता 643.36 ⇨  
**दैर्निक वृत्ति**  
रोजंदारी 643 15  
**दैर्निक वेश**  
अनीपचारिक वेश 589.15  
**दैर्निक समाचार पत्र**  
समाचार पत्र 445 1  
**दैर्न्य**  
कातरता 380 3

दुखग्रस्तता 391 2  
निर्धनता 627.5  
विनम्रता 733 8  
**देमोन (ग्रीक)**  
डेमन 785 5  
**देया**  
प्रारब्ध 260 1  
हाय 386 12  
**देर**  
कलश 745 43  
देव मंदिर 745 30  
**दैर्घ्य**  
दीर्घ कालीनता 37 4  
**दैव**  
अति प्राकृतिक 762 11  
ईश्वर 764 1  
ईश्वर प्रदत्त 764 37  
दैविक 772 40  
परलौकिक 258 14  
प्राकृतिक 762 10  
प्रारब्ध 260.1  
ब्रह्मा 766 1  
**दैव कोप**  
ईश्वरीय संकट 909 4  
**दैव गति**  
प्रारब्ध 260 1  
भाग्य चक्र 260 15  
**दैव चिंतक**  
ज्योतिषी 261.2  
**दैवज्ञ**  
ज्योतिषी 261.2 f  
**दैवज्ञता**  
फलित ज्योतिष 261.1  
**दैवत**  
देवता समूह 772 7  
देव मूर्ति 746 1  
दैविक 772 40  
**दैवत्य**  
देवता 772 1  
**दैवण्य**  
प्रारब्धवादी 260.29  
**दैव प्ररन**  
ज्योतिष प्ररन 261 6  
**दैव योग**  
संयोग 69.1  
**दैववशात**  
सयोगवशा 69.12  
**दैववादी**  
प्रारब्धवादी 260.29  
**दैव विवाह**  
दैव विवाह 799.24 ⇨  
**दैवगत**  
आकस्मिक 69 10  
सयोगपूर्ण 69 9  
**दैवात**  
संयोगवशा 69 12  
**दैवाधीन**  
प्रारब्धाधीन 260.27

**दैवाधीनता**  
प्रारब्धाधीनता 260.2  
**दैविक**  
अशारीरिक 139 12  
ईश्वर कृत 764 36  
ईश्वर प्रदत्त 764.37  
दैविक 772 40 ⇨  
स्वर्गिक 259 10  
**दैवी**  
आकस्मिक 69 10  
ईश्वर कृत 764 36  
ईश्वर प्रदत्त 764 37  
दैविक 772 40  
फरलौकिक 258 14  
पंगवर विषयक 791.29  
स्वर्गिक 259 10  
**दैवी आदेश**  
देव वाणी 742 8  
**दैवी उत्पात**  
ईश्वरीय संकट 909 4  
**दैवीकृत**  
दैवीय 733 15  
**दैवी प्रेरणा**  
अतरात्मा आदेश 351 5  
**दैवीय**  
दैवीय 733.15 ⇨  
**दैवीयता**  
दैवीयता 733 4 ⇨  
**दैवी संकट**  
ईश्वरीय संकट 909 4  
**दैवी संकेत**  
शकुन 262 1  
**दैवी संदेशवाहक**  
पंगवर 791.1  
**दैवोपहत**  
दुर्भाग्यशाली 260 34  
**दैशिक**  
देश स्तरीय 35 6  
दैशिक 29 28 ⇨  
**दैशिकता**  
द्विआयामता 964.8  
**दैशिका**  
धर्म उपदेशिका 742 23  
**दैह**  
शारीरिक 139 11  
**दैहिक**  
शारीरिक 139.11  
**दैहिक मृत्यु**  
कायिक मृत्यु 249.2  
**दो**  
दो 948.19 ⇨  
**दो अंजलि पात्र**  
अंजलि पुट 150 4  
**दो अमली**  
कुशासनपूर्ण 894.8  
**दो अर्थ**  
द्व्यर्थ 426.21



- दोआबा**  
दोआबा 25.6 ⇨
- दो आयाम**  
दो आयाम 964.6 ⇨
- दो आयाम सूची**  
दो आयाम सूची 964.7 ⇨
- दो आयामी आकृति**  
भुजाकृति 969 2
- दो आयामी माप**  
क्षेत्र माप 959 32
- दोउ**  
दो 948 19  
दोनो 948 87
- दो: उपमान सूची**  
दो: उपमान सूची 948 20 ⇨
- दो एक**  
अल्प 942 13
- दो एक बार**  
अल्पदा 72 10
- दो और आधा**  
टाई 949 34
- दोकड़ा**  
जोड़ी 687 3
- दोखंडा [दोखंडी]**  
दोखंडीय 612 10  
दो खंडीय 938 53
- दोखंडा भवन**  
दोखंडा भवन 602 22 ⇨
- दोखंडीय**  
दोखंडीय 612 10 ⇨
- दो खंडीय**  
दो खंडीय 938 53 ⇨
- दो खेपों में बँटना**  
ध्रुवीकरण होना 885 25
- दोमाला [दोमाली]**  
जारज 716 18  
वर्ण सकर 731 40
- दोगाना**  
युगल गीत 451 26
- दो गुटो में बँटा**  
ध्रुवीकृत 885 41
- दोगुना [दोगुनी]**  
दुगुना 949 43
- दोग्ध**  
दुहा [दुही] 554 22
- दोग्धा**  
घारण 841 13  
दोग्धा 554.23 ⇨  
शोषण कर्ता 627 25  
स्वार्थ साधक 712.17
- दोघ**  
दोग्धा 554 23
- दोघंद**  
दुगुना 949.43
- दो चार**  
अल्प 942 13
- दो चार दिन**  
अल्प आयु 229.4
- अल्प काल 38 4
- दो चार पल**  
अल्प काल 38 4
- दोचिन्ता [दोचिन्ती]**  
दुविधायस्त 501 8
- दोचिन्ती**  
दुविधायस्तता 501 2
- दो छोर: बीच की दूरी**  
अतराल 33 9
- दोजख**  
दोजख 259 8 ⇨
- दोजख (दे.)**  
नरक 259 6
- दोजखी**  
नारकीय 259 12  
पापी 812 12  
महापापी 812 14
- दोजर्बी**  
दोनाली बंदूक 927 5
- दो जहान**  
दो लोक 258 2
- दोजानू**  
बैठना मुद्रा सूची 1028 5
- दो जिस्म एक जान**  
घनिष्ठ मित्र 704 14
- दो टुक इनकार**  
स्पष्ट अस्वीकृति 338 2
- दो टुक जवाब**  
स्पष्ट उत्तर 334 4
- दो टुक बात**  
स्पष्टोक्ति 430 4
- दो टुक बात कहना**  
स्पष्ट कथन करना 430 12
- दो तन एक जान**  
घनिष्ठ मित्र 704 14
- दोतरफ़ा**  
पारस्परिक 703 10
- दोतल्ला [दोतल्ली]**  
दोखंडीय 612 10
- दोतही चादर**  
दोतही चादर 593 24 ⇨
- दोताल**  
दोताल 458 40 ⇨
- दो तिहाई**  
दो तिहाई 949 36 ⇨
- दो तीन**  
अल्प 942 13
- दो तीन पाँच**  
दो तीन पाँच 478 13 ⇨
- दोदना**  
मुकरना 338 25
- दो दर्जन**  
चौबीस समुदाय 687 15
- दो दिन**  
अल्प काल 38 4
- दो दिन का मेहमान**  
अल्प कालीनता उक्ति सूची 38.9
- दो दिन का सुलतान**  
अल्प कालीनता उक्ति सूची 38 9
- दो दिन की ज़िदगी**  
अल्प कालीनता उक्ति सूची 38 9
- दोदिला [दोदिली]**  
दुविधायस्त 501 8
- दोदिली**  
दुविधायस्तता 501 2
- दोदिशंत (प्र)**  
आल्टरनेटिंग करंट 102 3
- दोदिश करंट (प्र)**  
आल्टरनेटिंग करंट 102 3
- दो दिशा: मध्य अंतराल**  
दिशावकाश 29 22
- दोदिशा मार्ग**  
दो दिशा मार्ग 1067 5
- दो दिशा मार्ग**  
दो दिशा मार्ग 1067 5 ⇨
- दोघ**  
दोग्धा 554 23
- दोघारा**  
दुधारी तलवार 924 8
- दोघारा [दोघारी]**  
दुधारा [दुधारी] 997 13
- दोघारी**  
दुधारी तलवार 924 8
- दो नंबर का पैसा**  
काला धन 865 3
- दोन**  
दोआबा 25.6  
नदी सगम 21 20
- दोना**  
दोना 683 12 ⇨  
पत्तल 685 4
- दोना (इटली)**  
विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856 6
- दोनाली बंदूक**  
दोनाली बंदूक 927 5 ⇨
- दोनाबा**  
दोनाबा 1072 20 ⇨  
नीका सूची 1072 3
- दोनी**  
दोना 683 12
- दोनों**  
दोनों 948.87 ⇨
- दोनों और एक सा**  
सममित 1026 8
- दोपतवारी**  
नीका सूची 1072 3
- दो पत्रे: बीच का अमुद्रित पत्रा**  
अतर्पत्र 1002 7
- दोपल्ली**  
दुपलिया टोपी 584 12
- दोपहर**  
दिन दूसरा पहर 49.4  
मध्याह्न 47.9
- दोपहर: आहार**  
मध्याह्न आहार 199 3
- दोपहलू**  
द्विपार्श्वीय 997 12
- दोपहिया गाड़ी**  
द्विचक्र यान 1070 3
- दोपाया**  
द्विपद जीव 121 10  
मानव 128 1
- दोपाया पूँछहीन वानर**  
बनमानुस 127 91
- दो पार्श्व**  
दक्षिण वाम पार्श्व 997 6
- दो पाव**  
आधा 949 37
- दोफौक**  
द्विखंडित 938 52  
फौक कटाई 543 6
- दो बार विवाहित**  
दो बार विवाहित 799.69 ⇨
- दोबारा**  
नवत 532 24  
पुन 73 5
- दोबारा आना**  
फिर आना 1093 10
- दोबारा बनाना**  
जीर्णोद्धार करना 598.13
- दोबारा होना**  
पुनरावर्तित होना 73 3
- दोबाला**  
दुगुना 949 43
- दो बिंदु: संयोजक रेखा**  
रेखा 968 6
- दो बैल ले कर कन्या बान**  
आर्ष विवाह 799 21
- दोमंजिला [दोमंजिली]**  
दोखंडीय 612 10
- दोमट**  
दोमट 100 17 ⇨
- दोमहला**  
दोखंडा भवन 602 22
- दोमहला [दोमहली]**  
दोखंडीय 612 10
- दो मात्रा**  
गुरु मात्रा 452 40  
दीर्घ मात्रा 410.15
- दोमानी**  
द्व्यर्थी 426.37
- दोमानी उक्ति**  
द्व्यर्थक उक्ति 426.22
- दोमुँहा**  
दोमुँहा साँप 123 12
- दोमुँहा [दोमुँही]**  
द्विपार्श्वीय 997 12
- दोमुँहा साँप**  
दोमुँहा साँप 123.12 ⇨
- दो में से एक का समर्थन**  
विनिगमन 325 14
- दो में से एक भाग**  
आधा 949.37

## दोय

### दोय

दोनों 948 87

### दोयज

द्वितीया 44.8

### दोयम

दूसरा [दूसरी] 948 86

दो 948 19

### दोर

डोर 569 9

### दोराहा

दोराहा 1064.4 ⇨

### दोरुष्ठा [दोरुष्ठी]

द्विपाथीय 997 12

### दोरोजा

अल्प कालीन 38 8

### दोल

कृष्ण दोलोत्सव 57.31

झूला 1034.3

झूला तीज 57 8

### दोलक

झूलाने वाला 1034.23

### दोलकी

दो लड़ी: माला 228.41

### दो लड़ी: माला

दो लड़ी माला 228.41 ⇨

### दोलन

झूलन 1034 1

तरंगण 1040 15

दोलन 1037 8 ⇨

सघलन 1037 4

### दोलन करना

दोलन करना 1037 15 ⇨

### दोलन कुरसी

दोलन कुरसी 1034 16 ⇨

### दोलन घोड़ा

दोलन घोड़ा 1034.15 ⇨

### दोलन झूला

दोलन झूला 1034.14 ⇨

### दोलन प्रति मिनट

प्रदोलन गति माप 958 36

### दोलन प्रति सेकंड

प्रदोलन गति माप 958 36

### दोलना

पालना 1034 17

### दोला

घरखी झूला. डोली 1034 11

झूला 1034.3

दुबिधा 501 1

रस्ती झूला 1034.5

### दोला कुरसी

रीकिंग चेअर 595 25

### दोलायक

तरंगायक 1040 31

### दोलायनशीलता

अस्थिरता 1037.6

### दोलायमान

कंपित 1039.20

झूलता [झूलती] 1034 21

दृढ़मलहीन 344 12

दोलायमान 1037.23 ⇨

विघलनशील 501 12

### दोलायित

झूलता [झूलती] 1034 21

### दोलिका

घरखी झूला डोली 1034.11

झूला गति 1035 3

डोली 1071 21

### दोलित

उद्धिन 377 13

कंपित 1039 20

झूलता [झूलती] 1034 21

दोलित 1037.24 ⇨

विघलित 501 11

### दोलित करना

दोलन करना 1037 15

### दोलितता

उद्धिनता 377 4

तरंगिता 1040 16

### दोलित होना

झूलना 1034.19

### दोलित्र

तरंगायक 1040 31

दोलित्र 1037 9 ⇨

### दोली

डोली 1071 21

दोलन कुरसी 1034 16

पालना 1034 17

### दो लोक

दो लोक 258 2 ⇨

### दोलोत्सव

कृष्ण दोलोत्सव 57 31

झूला तीज 57 8

### दोरांबा

सोमवार 46 4

### दो शब्द

भूमिका 447 8

### दोशीज़गी

कौमार्य 234 11

### दोशीज़ा

कुमारी 234 17

### दोष

अपराध 861 1

अवगुण 761 11

काय्य दोष 453 5

रत्न दोष 98 2

रोग 163 1

लांछन 843.7

### दोषकर

अकल्याणकारी 711 9

अपकारक 831.15

दुर्गुणकारक 314 9

### दोषकारी

अपकारक 831.15

### दोषघात

अकल्याण निवारण 710 9

### दोषघ्न

अकल्याण निवारक 710 27

### दोषजनक

दुर्गुणकारक 314.9

### दोष दर्शन

दोष दर्शन 843.9 ⇨

### दोषदर्शी

दोषदर्शी 843 25 ⇨

### दोष दूर करना

अकल्याण निवारना 710 17

### दोष देखना

दोष देखना 843.18 ⇨

### दोष निकालना

दोष देखना 843 18

### दोष निवारक

अकल्याण निवारक 710 27

### दोष निवारण

अकल्याण निवारण 710 9

### दोष निवारना

अकल्याण निवारना 710 17

### दोष पत्र

आरोप पत्र 875 8

### दोषप्रद

दुर्गुणकारक 314 9

### दोष भिटाना

अकल्याण निवारना 710 17

### दोषमुक्त

अपराध मुक्त 869 9

### दोष मुक्त करना

अपराध मुक्त करना 869 6

### दोष मुक्ति

अपराध मुक्ति 869 4

### दोष लगना

आरोप लगना 875 21

### दोष लगाना

आरोप लगाना 875 22

### दोष वर्णन

निदन 843 2

### दोषसिद्धि

दोष सिद्धि 877 3

### दोष सिद्धि

दोष सिद्धि 877.3 ⇨

### दोष स्वीकृति

अपराध स्वीकृति 876.9

### दोषहर

अकल्याण निवारक 710 27

### दोष हरना

अकल्याण निवारना 710 17

### दोष हर्ता

अकल्याण निवारक 710 27

### दोषहीन

परिपूर्ण 313 14

परिष्कृत 537.9

### दोषहीनता

परिपूर्णता 313.5

### दोषा

रात 48.1

### दोषान्वेषण

दोष दर्शन 843.9

### दोषारोप

आरोप 875 7

आरोप 875 7

### दोषारोपः उत्तर

स्पष्टीकरण 876 11

### दोषारोपक

आरोप कर्ता 875 9

### दोषारोपित

आरोपित 875 25

### दोषारोपित होना

आरोप लगना 875 21

### दोषी

अपराधी 861 14

कुव्यसनी 812 16

दुर्गुणी 314 8

भूल कर्ता 498 7

### दोसाई

डोसा 202 13

दो सप्ताह मे एक बार

द्विसाप्ताहिक 71 17

### दो: समुदाय

जोड़ी 687 3

### दोसा

डोसा 202 13

### दोसूती

दसूती 580 26

दसूती कढ़ाई 577 19

### दो सुयोदय: तिथि

तिथि वृद्धि 44 3

### दो से अविभाज्य

विषम संख्यक 949 30

### दो से विभाज्य

समसंख्यक 949 29

### दो सौ पान: गड़की

दो सौ पान समुदाय 687 21

### दो सौ पान: समुदाय

दो सौ पान समुदाय 687.21 ⇨

### दोस्त

पुरुष मित्र 705 2

### दोस्त अहबाब

मित्र मउली 705 4

### दोस्त नवाज़

मित्र वत्सल 705 27

### दोस्तनवाज़ी

निस्वार्थ मित्रता 705 9

मित्र वत्सलता 705 17

### दोस्ताना

मित्रता 705 1

मित्रतापूर्ण 705 26

### दोस्ती

मित्रता 705 1

### दोस्ती का हाथ

मित्रता स्थापना 705 15

### दोस्तों का दोस्त

मित्र वत्सल 705 27

दोह  
दोहन 554 6  
दोहक  
शोषण कर्ता 627.25  
दोहगा  
रखेली 806 7  
दोहता  
धेवता 722 36  
दोहती  
धेवती 722 37  
दोहत्थक  
दुहत्थक 918 18  
दोहत्था  
दुहत्थक 918 18  
दोहत्था [दोहत्थी]  
दुहत्था 487 29  
दोहत्थापन  
दुहत्थापन 487 10  
दोहद  
इच्छा 359 1  
दोहद 798 5 ⇌  
भ्रूण 241 11  
लालसा 359 5  
दोहदवती  
दोहदवती 798.41 ⇌  
दोहदी  
दोहदवती 798 41  
दोहन  
आर्थिक शोषण 627.10  
दोहन 554 6 ⇌  
निष्कर्षण 83 1  
दोहन काल  
दोहन काल 554 8 ⇌  
दोहन पात्र  
दोहन पात्र 554 7 ⇌  
दोहन रस्सी  
दोहन रस्सी 555.19 ⇌  
दोहना  
दुहना 554.19  
दोहनी  
दोहन पात्र 554 7  
दोहर  
दोहर 593 10 ⇌  
दो हरक  
धिकार 843 5  
दोहरा  
दोहा 452.15  
दोहरा [दोहरी]  
दुगुना 949.43  
दोहरा टौका: सीबन  
बखिया 577 8  
दोहरापन  
मनोभाजन 353.12  
दोहराया [दोहराई]  
पुनरावर्तित 73.4  
दोहराव  
अनुपठन 321.28  
अनुप्रास अलंकार 454.9

अनुलाप 435 9  
अनुशीलन 321.25  
पुनरावृत्ति 73 1  
पुनरुक्ति 434 6  
पुनरुक्ति अलंकार 454 10  
दोहरा व्यक्तित्व  
मनोभाजन 353.12  
दोहरा होना  
लोटपोट होना 384 12  
दोहरी गौठ  
दोहरी गौठ 572.5 ⇌  
दोहली  
अशोक 13 4  
दोहा  
दोहा 452 15 ⇌  
दोहित  
दुहा [दुही] 554 22  
शोषित 627 24  
दोहद  
दोहद 798 5  
दोह्या  
गाय 127 10  
दौरी  
दौरी 548 21  
दौग्ध  
दुग्धीय 193 17  
दौक  
एक धाव 484 2  
दौक प्रतियोगिता 484 3  
दौङ्काकी 484 1  
दुत गति 1044 2  
दुत गमन 1044 3  
पलायन 916 1  
पेदल दौङ् 484 7  
रन 475 31  
दौङ् गाड़ी  
रेस कार 1071 56  
दौङ्गी कूद  
दौङ्गी कूद 1086.8 ⇌  
दौङ्गधूप  
बहुविध प्रयत्न 489.3  
स्वार्थ साधन 712 6  
दौङ्गना  
दौङ्गना 484 13 ⇌  
दुत गमन करना 1044.5  
पलायन करना 916 10  
बहुविध प्रयत्न करना 489.6  
वेग बढ़ना 1043 10  
दौङ्गने बाला  
दौङ्गक 484 15  
दौङ्ग पट्टी  
दौङ्ग पट्टी 1063.31 ⇌  
दौङ्ग पथ  
दौङ्ग मैदान 1063.27  
दौङ्ग प्रतियोगिता  
दौङ्ग प्रतियोगिता 484.3 ⇌  
दौङ्ग मार्ग  
दौङ्ग मार्ग 1063.26 ⇌

दौङ्ग मैदान  
दौङ्ग मैदान 1063.27 ⇌  
दौङ्गक  
दौङ्गक 484 15 ⇌  
दौङ्गकी  
दौङ्गकी 484.1 ⇌  
पेदल दौङ् 484 7  
दौङ्गान  
फ्लैग रेस 484 8  
वेग 1042 9  
दौङ्गाना  
वेग बढ़ाना 1043 11  
दौङ्ग  
दूत कर्म 443 8  
सदेश बहन 443 2  
दौना  
दौना 683 12  
दौना (दे.)  
पल्लव बरतन 680 7  
दौनागिरि  
द्रोणाघत 17.11  
दौनिया  
दौना 683 12  
दौनी  
दौना 683.12  
दौर  
उथल पुथल 532 4  
उन्नति काल 534 2  
काल 36 1  
गस्त 1083 16  
जामे सेहत 209 24  
दीर्घ काल 37 5  
नियत काल 39 1  
पारी 109  
मद्यपान 209 21  
युग 40 1  
दौरा  
प्रताप 849 5  
प्रतिष्ठा वृद्धि 849 3  
दौर में  
जाते जाते 1091 16  
दौरा  
आवेश 371 1  
गस्त 1083.16  
छापा 914 8  
दौरा 169.5 ⇌  
दौरा 1087.12 ⇌  
बॉस बेत टोकरा 677 4  
भिरगी 264 7  
दौराङ्ग  
अवधि में 39.11  
जाते जाते 1091 16  
दौरानी  
देवरानी 724.29  
दौरा बन्त  
कालचक्र 38.3  
दौरा  
दुर्गाय 620.22

दौर्मनस्य  
वैमनस्य 706 10  
दौलत  
धन 628.1  
धन संपत्ति 624 10  
संपत्ति 624.1  
दौलत खाना  
श्रोता: गृह 601 3  
दौलतबंद  
धनाढ्य 626 14  
दौलतबंदी  
धनाढ्यता 626.3  
दौवारिक  
द्वार पहरेदार 908 13  
दौवंत  
तलवार 924 7  
दौहित्र  
धेवता 722 36  
दौहित्र बधु  
नतोहू 724 25  
दौहित्री  
धेवती 722 37  
घावा  
आकाश 2 1  
स्वर्ग 259 1  
घावा पृथ्वी  
धरती आकाश 2.2  
घुकारि  
कोआ 126 22  
घुगण  
मास 43 1  
घुषर  
पक्षी 126.1  
घुति  
दीप्ति 287 16  
प्रकाश 287 1  
रत्न आभा 98 3  
घुतिमान  
आलोकित 285 45  
घुनदी  
आकाश गंगा 1 14  
घु निवासी  
देवता 772 1  
घुपति  
इंद्र 773.5  
सूर्य 8 1  
घुपणि  
सूर्य 8 1  
घुपन  
दीप्ति 287.16  
प्रेरणा 499 1  
बलिष्ठ 160 10  
बलिष्ठता 160.1  
शित 633.1  
शक्ति 487 1  
घुलोक  
अंतरिक्ष 2.3  
स्वर्ग 259.1

## दुलोकीय

### दुलोकीय

अंतरिक्षीय 2 8

### दुत

जुआ 1076.22

दुत 481.1 ⇨

### दुतकक्ष

दुतकक्ष 482.4 ⇨

### दुत कपट

दुत कपट 481.6 ⇨

### दुत कपट करना

दुत कपट करना 481.22 ⇨

### दुतकर

अक्ष दुतकर 481.9

दुतकर 481.8 ⇨

### दुतकार

दुत गृह स्वामी 481.14

### दुतकारक

दुत निरीक्षक 481.12

### दुतकारकता

दुत निरीक्षण 481.7

### दुत क्रीडा

दुत 481.1

### दुत खिलाडी

अक्ष दुतकर 481.9

### दुत खेलन

दुत खेलना 481.21 ⇨

### दुतगृह

दुतगृह 481.13 ⇨

### दुत गृह स्वामी

दुत गृह स्वामी 481.14 ⇨

### दुत चक्र

कैसीनो चक्र 481.16

### दुतधारी

जुआधारी 1076.29

### दुत निरीक्षक

दुत निरीक्षक 481.12 ⇨

### दुत निरीक्षण

दुत निरीक्षण 481.7 ⇨

### दुत पूर्णिमा

शरद पूर्णिमा 57.26

### दुत बीज

कोडी 479.26

### दुत विशेष

घीसठ कला सूची 397.4

### दुतराला

दुतगृह 481.13

### दुत सूची

दुत सूची 481.2 ⇨

### दुताधिकारी

दुत गृह स्वामी 481.14

### दुताध्यक्ष

दुत गृह स्वामी 481.14

दुत निरीक्षक 481.12

### दुतित

जुता [जुती] 1079.21

### द्यो

द्यो 773.31 ⇨

### द्योत

प्रकाश 287.1

### द्योतक

अर्थ द्योतक 427.23

आलोकक 285.46

### द्योतन

अर्थ द्योतन 427.1

आलोकन 285.2

सज्ञापन 441.7

### द्योतित

आलोकित 285.45

विवक्षित 426.32

सज्ञापित 441.19

### द्योस वचु (अवतार)

भीष्म 771.77

### द्योस

तैतीस देवता सूची 772.35

### द्रक्षिमा

आत्मविश्वास 487.8

### द्रक्षिमा

सुदृक्ता 160.7

### द्रव्य

जावशील 1032.27

### द्रव

गति 1042.1

तरल 80.5

तरल पदार्थ 79.5

द्रवित 80.6

निष्कर्ष प्रकार सूची 84.2

प्रवाह 1041.1

प्रवाहशील 1041.8

रस 84.3

रस 280.7

वेग 1042.9

जावशील 1032.27

### द्रव अवस्था

तरल अवस्था 79.4

### द्रव्यज

गोद 1012.7

### द्रवण

द्रवण 80.2 ⇨

चाव 1032.1

### द्रवता

तरलता 80.1

### द्रवना

दया आना 834.9

द्रवित होना 80.4

चाव होना 1032.16

### द्रविण

धन 628.1

स्वर्ण 95.4

### द्रविणमय

विष्णु 768.1

### द्रवित

द्रवित 80.6 ⇨

संगलित 565.28

### द्रवित करना

संगलित करना 565.24

### द्रवित होना

द्रवित होना 80.4 ⇨

### द्रवीभूत

दयार्द्र 834.14

### द्रवैतर

सघन 81.15

### द्रव्य

जड़ पदार्थ 78.5

धन 628.1

धन संपत्ति 624.10

सघटक 545.3

### द्रव्य वाचक संज्ञा

सज्ञा सूची 425.15

### द्रव्यार्जन

अर्जन 648.1

### द्रष्टव्य

जिज्ञास्य 305.44

दर्शनीय 400.13

विचारणीय 330.20

### द्रष्टा

दर्शक 399.4

प्रत्यक्ष दर्शी 284.51

विचारक 330.6

### द्रष्टार

निर्णय कर्ता 328.13

### द्रह

नितल गड्ढा 985.12

### द्राक्षा

अगूर 190.3

किशमिश 191.5

मुनक्का 191.11

### द्राक्षासव

अगूर मद्य 209.4

### द्राक्षिा (म्र)

ब्रांजी 209.11

### द्राधिमा

देशांश 10.14

विस्तीर्णता 981.1

### द्राव

गति 1042.1

दया द्रवण 834.5

दीडाकी 484.1

द्रवण 80.2

पलायन 916.1

चाव 1032.1

### द्रावक

द्रावक 80.7 ⇨

### द्रावकर

सुहागा 281.33

### द्रावण

अपाहरण 862.4

धातु संगलन 565.11

### द्रावण पात्र

संगलन पात्र 565.16

### द्राविडक

काला नमक 279.6

### द्राविडी

छोटी इलायची 281.9

### द्रावित

द्रवित 80.6

संगलित 565.28

### द्रावी

द्रावक 80.7

संगलक तत्त्व 565.12

### द्रु

वृक्ष 111.18

### द्रुत

ताल मात्रा प्रकार सूची 458.35

ताल लय प्रकार सूची 458.38

द्रवित 80.6

द्रुत 1044.6 ⇨

द्रुतगामी [द्रुतगामिनी] 1044.7

स्फूर्त 491.13

स्वर लय सूची 465.13

### द्रुत करना

वेग बढ़ाना 1043.11

### द्रुतकारिता

स्फूर्ति 491.2

### द्रुत गति

द्रुत गति 458.8 ⇨

द्रुत गति 1044.2 ⇨

### द्रुत गमन

द्रुत गमन 1044.3 ⇨

द्रुत चलन 484.11

### द्रुत गमन करना

द्रुत गमन करना 1044.5 ⇨

### द्रुत गामिता

द्रुत गामिता 1044.4 ⇨

### द्रुतगामी [द्रुतगामिनी]

द्रुतगामी [द्रुतगामिनी] 1044.7 ⇨

### द्रुत चलन

द्रुत चलन 484.11 ⇨

### द्रुत चलना

द्रुत गमन करना 1044.5

### द्रुतलः

द्रुतलः 1044.10 ⇨

शीघ्रतः 496.13

### द्रुतलः (दे. शीघ्रतः)

द्रुतलः 1044.10

### द्रुतता

द्रुतता 1044.1 ⇨

### द्रुतता (दे.)

शीघ्रता 496.1

### द्रुतन

वेग वर्धन 1043.6

### द्रुत मार्ध

विक्रि मार्ध 1083.13

### द्रुत वेग

द्रुत गति 1044.2

### द्रुत स्वर

स्वर अलंकार सूची 465.11

### द्रुत होना

द्रुत गमन करना 1044.5

वेग बढ़ाना 1043.10

### द्रुति

दीडाकी 484.1

- द्रवण 80 2  
दुतता 1044 1  
पलायन 916 1  
दुतित  
वेग वर्धित 1043 17  
द्रुपद  
द्रुपद 771 62 ⇨  
द्रुपदात्मज  
शिखडी 771 90  
द्रुम  
कुबेर 779 4  
वृक्ष 111 18  
द्रुम कुंज  
वृक्ष कुंज 12 18  
द्रुमामय  
कृषि रोग 549 6  
द्रुमालय  
वन 12 1  
द्रुमारम  
पादपाश्रम 77 4  
द्रुमिणी  
वन 12 1  
द्रुमिल  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
द्रुमिल (पूर्व जन्म)  
उग्रसेन 771 42  
द्रुमेश्वर  
ताड़ 13 8  
पारिजात वृक्ष 13 30  
द्रुकयूल (स्थानीय)  
भूटान 27 13  
द्रोण  
आयतन भाषी पात्र सूची 959 58  
कटीता 679 43  
कुड 679 22  
डोगा 679 47  
दोना 683 12  
द्रोणाचार्य 771 63  
नीका 1072 2  
वृक्ष 111 18  
द्रोण पर्व  
महाभारत पर्व सूची 771.23  
द्रोणपुत्र  
अश्वत्थामा 771 41  
द्रोण वसु (पूर्व जन्म)  
नद 771 67  
द्रोणः शिष्य  
एकलव्य 771 45  
द्रोणाघल  
द्रोणाघल 17 11 ⇨  
पौराणिक पर्वत सूची 17.8  
द्रोणाचार्य  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
द्रोणाचार्य 771 63 ⇨  
द्रोणि  
घाटी 16 16  
द्रोणिका  
गंगाल 679 24
- द्रोणी  
कटीता 679 43  
टब 679 30  
दोना 683 12  
द्रोह  
आठ अवगुण सूची 76. 13  
ईर्ष्या 709 1  
विद्रोह 903 3  
विश्वासघात 827 4  
शत्रुता 706 1  
द्रोहपूर्ण  
ईर्ष्यापूर्ण 709 4  
द्रोह विद्रोह  
सत्ता विरोध 902 7  
द्रोहहीन  
ईर्ष्याहीन 709 7  
द्रोही  
विद्रोही 903 18  
विश्वासघाती 827 19  
शत्रु 706 2  
द्रोणी  
अश्वत्थामा 771 41  
गंगाल 679 24  
द्रोपद  
धृष्टद्युम्न 771 66  
द्रोपदी  
अर्जुन पत्नी सूची 771 38  
द्रोपदी 771 64 ⇨  
पद्मकन्या सूची 774 18  
द्रोपदीः वीरहर्ता  
दुरशासन 771 59  
द्रोपदीः पिता  
द्रुपद 771 62  
द्रोपदीवाद  
पद्मपतित्व 799 10  
द्वंद्व  
जोड़ी 687 3  
दुबिधा 501 1  
द्वंद्व युद्ध 905 9  
विपरीत जोड़ी 687 4  
विपरीतता 310 2  
सघर्ष 905 1  
द्वंद्वचर  
द्वंद्वचर 696 14 ⇨  
द्वंद्वचर होना  
द्वंद्वचर होना 696 21 ⇨  
द्वंद्वचर्या  
द्वंद्वचर्या 696 13 ⇨  
द्वंद्वन  
विनिगमन 325 14  
द्वंद्व युद्ध  
द्वंद्व युद्ध 905.9 ⇨  
द्वंद्वालीलता  
स्थितप्रज्ञता 761 10  
द्वंद्वी  
द्वंद्वचर 696 14  
विरोधी 886 7  
सघर्षशील 905 32
- द्वय  
जोड़ी 687 3  
दो 948 19  
दोनो 948 87  
द्वयर्थक  
द्वयर्थी 426 37  
द्वयर्थक उक्ति  
द्वयर्थक उक्ति 426.22 ⇨  
द्वादश  
आदित्य 777 1  
बारह 948 42  
बारहवौ [बारहवीं] 948 98  
द्वादश लव प्रणाली  
द्वादश लव प्रणाली 950 7 ⇨  
द्वादश लोचन  
स्कंद 773 50  
द्वादशाख्य  
गीतम बुद्ध 793 1  
द्वादशात्मा  
सूर्य 8 1  
द्वादशी  
द्वादशी 44 18 ⇨  
द्वापर  
दुबिधा 501 1  
द्वापर युग 40 14  
द्वापर युग  
द्वापर युग 40 14 ⇨  
द्वापर युगीन  
द्वापर युगीन 40 19 ⇨  
द्वापरी  
द्वापर युगीन 40 19  
द्वापरीय  
द्वापर युगीन 40 19  
द्वा  
छिद्र 271 6  
द्वा 608 1 ⇨  
मुख्य द्वार 608 7  
द्वा आवरण  
द्वा परदा 605 9  
द्वा कपाट  
कपाट 609 5  
द्वाकोष्ठ  
डेवकी 608 11  
द्वाचार  
वधू स्वागत 800 41  
वर स्वागत 800 46  
द्वा छंकाई  
वधू स्वागत 800 41  
द्वा दरु  
सागीनु 13 25  
द्वा पटी  
धिक्र 605 11  
द्वा परदा 605 9  
द्वा पर जाना  
मिक्षा माँगना 642.15  
द्वा परदा  
द्वा परदा 605.9 ⇨
- द्वाारः पहरेदार  
द्वाारः पहरेदार 908.13 ⇨  
द्वाारः पार्श्व भाग  
चौखट पार्श्व काष्ठ 609.4  
द्वाारपाल  
द्वाारः पहरेदार 908 13  
द्वाार पिंडी  
द्वाार पैड़ी 613 4  
द्वाारः पैड़ी  
द्वाार पैड़ी 613 4 ⇨  
द्वाार मंडप  
द्वाार मंडप 608.12 ⇨  
द्वाार मंत्र  
ताला 609 24  
द्वाार सोपान  
द्वाार पैड़ी 613 4  
द्वाारस्थ कक्ष  
द्वाारस्थ कक्ष 614 10 ⇨  
द्वाार  
कृतत 505 33  
गृह 601 1  
द्वाार 608 1  
द्वाारा प्रेषित 1054 18  
मार्ग से 1098 26  
द्वााराप्र चतूतरा  
द्वााराप्र चतूतरा 610 10 ⇨  
द्वााराचार  
वरयात्रा स्वागत 800 44  
वर स्वागत 800 46  
द्वााराध्यक्ष  
द्वाार पहरेदार 908 13  
द्वाारा प्रेषण  
द्वाारा प्रेषण 1054.3 ⇨  
द्वाारा प्रेषित  
द्वाारा प्रेषित 1054 18 ⇨  
द्वाारालिंद  
द्वाार मंडप 608 12  
द्वाारिका  
कृष्ण राजधानी 771 15  
द्वाारिकाधीश  
कृष्ण 771 1  
द्वाारिका नाथ  
अष्ट कृष्ण सूची 771 3  
कृष्ण 771 1  
द्वाारिकाः सफ़ेद मिट्टी  
गोपी चंदन 100 14  
द्वाारिकेश  
कृष्ण 771 1  
द्वाारी  
छोटा द्वार 608.13  
द्वि  
दो 948 19  
द्विआयामता  
द्विआयामता 964.8 ⇨  
द्विआयामीय  
द्विआयामीय 964 23 ⇨  
द्विक  
जोड़ीदार 687.24

## द्विककुद

दूसरा [दूसरी] 948.86  
दो खंडीय 938 53  
द्विककुद  
द्विककुद 147 14 ⇨  
द्विचंड  
दो खंडीय 938 53  
द्विचंडित  
द्विचंडित 938.52 ⇨  
द्विचंडीय  
दो खंडीय 938 53  
दोखंडीय 612 10  
द्विगुण  
दुगुना 949 43  
द्विगुणित  
दुगुना 949 43  
द्विगुणक यान  
द्विगुणक यान 1070.3 ⇨  
द्विचक्री  
साइकिल 1071 48  
द्विज  
अडज 243.14  
उच्च वर्णीय 731 32  
द्विज 731.7 ⇨  
यज्ञोपवीत धारी 798 46  
द्विजत्व  
उपनयन संस्कार 798 20  
द्विजपति  
चंद्रमा 8.2  
द्विजराज  
कपूर 274 14  
द्विज बाहन  
विष्णु 768 1  
द्विज समाज (पुराना)  
कुलीन समाज 728 4  
द्विज सूची  
द्विज सूची 731 8 ⇨  
द्विजा  
ब्राह्मण स्त्री 731 14  
द्विजायनी  
यज्ञोपवीत 798 22  
द्विजंज  
गरुड 777 15  
द्विजेश  
गरुड 777.15  
चंद्रमा 8.2  
ब्राह्मण 731 13  
द्विजोत्तम  
ब्राह्मण 731 13  
द्वितय  
जोड़ीदार 687.24  
दो खंडीय 938 53  
दोनों 948 87  
द्वितीय  
दूसरा [दूसरी] 948 86  
द्वितीय स्थानीय 707 12  
द्वितीय आश्रम  
गृहस्थ आश्रम 235 1

द्वितीय कण  
बीटा कण 78 18  
द्वितीय कारक  
कर्म कारक 425 22  
द्वितीय ताल  
दोताल 458 40  
द्वितीय पुरस्कार  
द्वितीय पुरस्कार 857.4 ⇨  
द्वितीय लव प्रणाली  
द्वितीय लव प्रणाली 950 4 ⇨  
द्वितीय लव प्रणाली (1, 10, 11, 100)  
द्वितीय लव प्रणाली 950 4  
द्वितीय श्रेणी देवता (ग्रीस)  
डेमन 785 5  
द्वितीय स्थानीय  
द्वितीय स्थानीय 707.12 ⇨  
द्वितीया  
द्वितीया 44 8 ⇨  
द्वितीयाथ  
उत्तरार्ध 447 12  
द्वितीयो नास्ति  
अनुपम 312 17  
द्वित्व  
जोड़ी 687 3  
द्विदल  
दलहन 188 1  
दली दाल 188 2  
द्विदल धान्य  
दलहन 188 1  
द्विदलन  
दलन 540 5  
द्विदलित  
दला [दली] 540 19  
द्विदलित करना  
दलना 540 13  
द्विदलीय  
द्विपक्षीय 885 30  
द्विदिश  
एकायामीय 964.22  
द्विदिश आयाम  
एक आयाम 964 4  
द्विदिशता  
एकायामता 964 5  
द्विदिशा  
एकायामीय 964.22  
द्विदेव  
कृष्ण अर्जुन 771 52  
द्विधागति  
उभयधर जीव 121.5  
द्विधातु  
मिश्र धातु 93.3  
द्विधुवता  
द्विधुवता 885.13 ⇨  
द्विधनक  
जन्मतः खतना कृत 798 48  
द्विध  
हाथी 127.38

द्विपक्ष  
द्विपक्षीय 885.30  
पक्षी 126 1  
द्विपक्षीय  
दो खंडीय 938 53  
द्विपक्षीय 885.30 ⇨  
द्विपार्श्वीय 997 12  
द्विपत्नी कर्ता  
द्विपत्नी कर्ता 799 70 ⇨  
द्विपत्नीत्व  
द्विपत्नीत्व 799 12 ⇨  
द्विपथ  
दोराहा 1064 4  
द्विपद  
मानव 128 1  
द्विपद जीव  
द्विपद जीव 121.10 ⇨  
द्विपदा: (त्र)  
द्विपद जीव 121 10  
द्विपाटीय  
दो खंडीय 938 53  
द्विपाद  
द्विपद जीव 121.10  
द्विपार्श्व  
दक्षिण वाम पार्श्व 997 6  
द्विपार्श्वीय  
द्विपार्श्वीय 997.12 ⇨  
द्विफलक मकान  
डुल्लेक्स फ्लेट 602 28  
द्विबिंदु  
विसर्ग 410 12  
द्विभागीय  
दो खंडीय 938 53  
द्विभुज  
मानव 128 1  
द्विभूम  
दोखंडीय 612 10  
द्विमातुर  
गणेश 773.22  
जरासंध 771 58  
द्विमात्र  
दीर्घ मात्रा युक्त 410 23  
द्विमात्रिक  
दीर्घ मात्रा युक्त 410 23  
द्विरद  
हाथी 127 38  
द्विरागमन  
गीना 800.11  
द्विरेता  
वर्ण संकर 731 40  
द्विरैक  
भ्रमर 122.33  
द्विलोक  
दो लोक 258 2  
द्विबचन  
शब्दः वचन सूची 425.45  
द्विविधा  
दुविधा 501.1

द्विरायिका  
कूपे 1076 8  
द्विषतः  
ईर्ष्यापूर्वक 709 11  
द्विष्ट  
ईर्षित 709 5  
द्विसर  
दो लड़ी माला 228 41  
द्विसाप्राहिक  
द्विसाप्राहिक 71 17 ⇨  
द्वीप  
द्वीप 26 1 ⇨  
द्वीप पुंज  
द्वीप समूह 26 2  
द्वीप माला  
द्वीपावली 26 3  
द्वीपवती  
नदी 20 1  
पृथ्वी 9 1  
द्वीपवान  
बड़ी नदी 20 5  
समुद्र 24 1  
द्वीप समूह  
द्वीप समूह 26 2 ⇨  
द्वीपावली  
द्वीपावली 26 3 ⇨  
द्वेष  
ईर्ष्या 709 1  
घृणा 370.2  
प्रतिशोध भावना 873 3  
द्वेष क्लेश  
पच क्लेश सूची 761 17  
द्वेष पालन  
वैमनस्य 706 10  
द्वेषपूर्ण  
ईर्ष्यापूर्ण 709.4  
द्वेषपूर्णता  
ईर्ष्यालुता 709 2  
वैमनस्य 706 10  
द्वेषपूर्वक  
ईर्ष्यापूर्वक 709 11  
द्वेष भावना  
ईर्ष्यालुता 709 2  
द्वेषहीन  
ईर्ष्याहीन 709 7  
सौमनस्यपूर्ण 705 30  
द्वेषहीनता:  
ईर्ष्याहीनता 709 12  
द्वेषहीनता  
सौमनस्य 705 18  
द्वेष होना  
ईर्ष्या होना 709.3  
द्वेषित  
ईर्षित 709 5  
द्वेषी  
ईर्ष्यालु 709.6  
शत्रु 706.2

**द्रेष्टा**  
ईर्ष्यालु 709 6  
शत्रु 706.2

**द्वैगुणिक**  
व्याजजीवी 633 33

**द्वैगुण्य**  
द्वैत भाव 752 9

**द्वैत**  
इतरता 945 2  
जोड़ी 687 3  
द्वैत भाव 752 9

**द्वैत भाव**  
द्वैत भाव 752 9 ⇨

**द्वैतवाद**  
द्वैतवाद 760 10 ⇨

**द्वैध**  
दुविधा 501 1  
द्वैत भाव 752 9  
विपरीत जोड़ी 687 4  
विपरीतता 310 2

**द्वैधीकृत**  
द्विखंडित 938.52

**द्वैपायन**  
वेद ध्यास 789 21

**द्वैमातुर**  
गणेश 773 22  
जरासंध 771 58

**द्वैयापनी**  
वेद ध्यास 789 21

**द्वैराज्य**  
कुशासनपूर्ण 894.8

**द्वी**  
दो 948.19  
दोनो 948.87

**द्व्यर्थ**  
द्व्यर्थ 426.21 ⇨

**द्व्यर्थी**  
द्व्यर्थी 426.37 ⇨

**द्वैधलाना**  
घोटाला करना 865.18  
छल करना 827 14

**ध**

**धंधा**  
आजीविका 650 1  
व्यवसाय 650 9

**धंधा (बोलचाल)**  
वेश्या वृत्ति 807.2

**धंधा कर्ता**  
व्यवसायी 650.24

**धंधार**  
अग्नि ज्वाला 106.8  
लीयर 1062.3

**धंधारी**  
गोरखधंधा 333.18

**धंधाला**  
कुटनी 807.11

**धंधी**  
कर्मी 650 25  
व्यवसायी 650 24

**धंधोर**  
होलिकाग्नि 57.35

**धंधेक**  
धंधेका 245 13

**धंधेकना**  
दबकना 989 7  
धंधेकना 245 21 ⇨  
धंधेका 1031 19

**धंधेका**  
दना 163 18  
धंधेका 245 13 ⇨

**धंधेका लगना**  
धंधेकना 245 21

**धंधेसन**  
दलदल 25 28  
धंधेसन 1031 8 ⇨

**धंधेसन (दे.)**  
गड़न 1016 3

**धंधेसना**  
धुभना 270 11  
डूबना 1031 20  
दबकना 989 7  
धंधेसना 1031 19 ⇨  
पैठना 1094 23

**धंधेसनी**  
दलदली 25 34

**धंधेसा [धंधेसी]**  
धुभा [धुभी] 270 17  
डूबा [डूबी] 1031 31  
दबका [दबकी] 989 11  
पैठा [पैठी] 1094 30

**धंधेसान**  
ढलवाँ तट 25 17  
ढलान 989.2  
दलदल 25 28  
धंधेसन 1031 8

**धंधेसानदार**  
दलदली 25 34

**धंधेसा न होना**  
जंगम होना 1037 12

**धंधेसाना**  
गड़ाना 1016 38  
घोपना 270 14  
ठोकना 1051 30

**धंधेसापन**  
दबक 989.3

**धंधेसाव**  
ढलान 989 2  
धंधेसन 1031 8

**धंधेसा होना**  
स्थावर होना 1038 4

**धंधे**  
धैवत स्वर 459.12

**धंधेकत**  
प्रणोदन शक्ति 1051.2

**धक्**  
अकस्मात 69.13  
हृदय कंप 1039.5

**धक्धक्**  
आशका 377 1  
धक्धकाहट 297.30  
स्पंद 1039 1  
हृदय स्पंदन 1039 4

**धक्धक् करना**  
स्पंदित होना 1039.14

**धक्धक्काता [धक्धक्काती]**  
स्पंदित 1039 18

**धक्धक्काहट**  
धक्धक्काहट 297 30 ⇨  
हृदय स्पंदन 1039 4

**धक्धक्की**  
धक्धक्काहट 297 30  
हृदय कंप 1039.5

**धक्धक्क**  
अविरामत 1049 16

**धक्धक्की**  
धड़धड़हाट 297 31

**धक्कियाना**  
दुतकारना 855 9  
धक्कलना 1051 28  
निकाल भगाना 1092 14  
प्रणोदित करना 1051 19

**धक्कियाया [धक्कियाई]**  
धक्केला [धक्केली] 1051 39

**धक्कियाव**  
धक्कल 1051 12

**धक्केल**  
अपकेन्द्र बल 1050.3  
धक्केल 1051.12 ⇨  
प्रणोद ' शक्ति 1051 2  
विकर्ष' 1050 11

**धक्केलना**  
धक्केलना 1051 28 ⇨  
निकाल भगाना 1092 14  
प्रणोदित करना 1051 19  
विकर्षित करना 1050 26

**धक्केल बल्ली**  
धक्केल बल्ली 597.7 ⇨

**धक्केला**  
टिल्ला 1052.11  
प्रबल आक्रमण 914 7

**धक्केला [धक्केली]**  
धक्केला [धक्केली] 1051.39 ⇨  
विकर्षित 1050.30

**धक्क**  
हृदय कंप 1039.5

**धक्कक**  
प्रतापशाली 849.19

**धक्कक धक्कका**  
जनाकीर्णता 816.11  
भागदीड 1084 16

**धक्कका**  
आघात 169.2

**जैटी** 1089 13  
**झोंटा** 1034.2  
**ठोकर** 1084.10  
**डाइक** 22.5  
**दचका** 1051.18  
**धक्केल** 1051.12  
**धक्का** 1051.13 ⇨  
नीका घाट 1069 12  
प्रबल आक्रमण 914 7  
प्रवाह 1041.1  
प्रहार 918 1  
बंदरगाह 1069.8  
मनोघात 354.3  
विकर्षण 1050 11  
शौक 101.10  
सवेग 1042 10

**धक्का गाड़ी**  
ठेला 1071 6

**धक्का देना**  
धक्केलना 1051.28

**धक्का मुक्की**  
धुंसाधुंसी 905 20

**धक्के देना**  
दुतकारना 855.9  
निकाल भगाना 1092 14

**धक्का**  
जार 806 5

**धक्की**  
व्यभिचारिणी 806.11

**धक्का**  
दधका 1051.18  
धक्का 1051 13

**धज**  
अंग अनुपात 155.1  
अभिमान गति 1084.2  
गति शैली 1084 1  
नाज़ नख़रा 860 1  
सजधज 226.6

**धजा**  
शृंगार 222.1  
सजधज 226 8

**धजा [धजी]**  
सजा धजा [सजी धजी] 226.13

**धजीला**  
शृंगार प्रेमी (पुरुष) 222.5

**धजीला [धजीली]**  
सजा धजा [सजी धजी] 226.13

**धजीलापन**  
शृंगार प्रेम 222 4

**धजीली**  
शृंगार प्रेमी (स्त्री) 222.6

**धज्जियी उड़ाना**  
पूर्ण खंडन करना 326.10

**धज्जि**  
धज्जि 838.25 ⇨  
क्रीता 571.26

**धज्जि उड़ाना**  
विदीर्ण करना 544.13

## धज्जी धज्जी

धज्जी धज्जी

विदीर्ण 544 18

धट

तराजू 962 9

धटिका

चीवर 585 13

पसेरी 962.45

धटी

चीवर 585 13

शिव 767 1

धङ

तना 114 7

धङ 147.1 ⇨

मध्य भाग 996 3

शरीर मध्य भाग 139 5

धङक

धकधकाहट 297 30

स्पंद 1039 1

हृदय स्पंदन 1039.4

धङकता [धङकती]

स्पंदित 1039.18

धङकन

स्पंदन 1039 2

हृदय स्पंदन 1039 4

धङकना

स्पंदित होना 1039 14

धङका

आरांका 377 1

कृषि रक्षक पुतला 550 3

सदेह 341 3

धङः जनेऊ भाग

जनेवा 147 4

धङ-जौधः जोड

कूला 148.11

धङधङ

धङधङाहट 297 31

धङधङाहट

धङधङाहट 297.31

धङधङाहट

धङधङाहट 297.31 ⇨

धङधङी

धङधङाहट 297 31

धङधङ्गा

धङधङाहट 297 31

धमाका 296.21

धङधङ्गे से

अगुणतः 822.34

साहसपूर्वक 394.18

धङा

गुट 885 9

तराजू 962 9

तराजू पासग 962.25

बाट 962 27

भार 963 1

वाहित्र. भार 959.59

धङा उठाना

तीलना 962.63

धङाक से

शीघ्रत 496.13

धङाका

क्रान्ति विस्फोट 903.8

झटित वर्षा 54 10

धङाका

धङधङाहट 297 31

धङाका

धमाका 296 21

धङाधङ

अविरामत 1049 16

धङाकम

धम धङाम 297 32

धङी

झालर 571 39

पसेरी 962 45

धङेबंद

गुटबंद 885 38

धङेबंदी

गुटबंदी 885 10

धङेबाज

गुटबाज 885 39

धत

कुव्यसन 812 7

धतकारना

दुतकारना 855 9

धता बताना

चलता करना 1092 13

धतीगड

महाकाय 154 22

धतीगङा [धतीगङी]

वर्ण संकर 731.40

धतूर

नरसिंघा 461 60

धतुरा

धतुरा 212.7 ⇨

धतुरक

धतुरा 212 7

धधक

अग्नि ज्वाला 106 8

धधकता [धधकती]

उदीप्त (अग्नि) 107 14

धधकन

अग्नि वर्धन 107 3

धधकना

अग्नि उदीप्त होना 107.11

अति क्रुद्ध होना 373.16

धधकाई

अग्नि उदीपन 107 4

धधकाना

अग्नि उदीप्त करना 107 12

धधनजय

अग्नि 106 1

अर्जुन 771.36

धन जयकर्ता 864.27

लूटू पूटू 864.53

विष्णु 768 1

धन

धन 628.1 ⇨

धन संपत्ति 624 10

पूँजी 628 9

प्रेमपात्र 369 4

वित्त 633 1

स्वीकारात्मक 337.15

धन अभिमान

धन अभिमान 858.2 ⇨

धन इच्छा

धन इच्छा 628 3 ⇨

धन इच्छुक

धन इच्छुक 628.24 ⇨

धनकाम

धन इच्छुक 628 24

धन की खान

विशाल धनकोश 630 2

धन कुबेर

कुबेर 779 4

सेठ 626 8

धनगोप

कोशाध्यक्ष 630.12

धन छवि

पीजीटिव 405 11

धन जय

धन जय 864.26 ⇨

धन जयकर्ता

धन जयकर्ता 864.27 ⇨

धन तस्करा

काला धन तस्करा 865 4

धन तेरस

दीवाली उत्सव समूह सूची 57.16

धन दंड

अर्थ दंड 870 7

धनद

अग्नि 106.1

धनप्रद 628.27

धनद दिशा

उत्तर 29 9

धन दान

धन दान 641.12 ⇨

धनः देवी

लक्ष्मी 775 1

धन दीलत

धन संपत्ति 624.10

धनधानी

कोशागार 630.3

धनधान्य

उच्चवितता 625 3

धनधान्यपूर्णता

उच्चवितता 625.3

समृद्धि 626.1

धनधान्यहीन

असमृद्धि 627.16

धनधान्यहीनता

असमृद्धि 627.1

धनन

जोड कर्म 954.2

धनपति

कुबेर 779 4

धनाढ्य व्यक्ति 626 5

धनपाल

कुबेर 779 4

धनाढ्य 626 14

धनाढ्य व्यक्ति 626 5

धन पिशाच

धन लोलुप 628 26

धन पूजक

धन पूजक 628 25 ⇨

धन पेटी

नीली 672 8

धनप्रद

धनप्रद 628 27 ⇨

धन प्राप्ति

धन प्राप्ति 628 2 ⇨

धनफल

जोड फल 954 3

धनः बेईमानी

आर्थिक बेईमानी 816 3

धन मुद्रा

सिकाका 629 1

धनमूल

मूलधन 633 9

धन राशि

धन राशि 628 4 ⇨

धन लाभ

धन प्राप्ति 628.2

धन ले कर कन्या दान

आसुर विवाह 799 22

धन लोलुप

धन लोलुप 628.26 ⇨

धनवान [धनवती]

धनाढ्य 626 14

धन विजय

लूटपाट 864 24

धन विजेता

धन जयकर्ता 864.27

धन वैभवशाली

धन वैभवशाली 226.16 ⇨

धन संपत्ति

धन संपत्ति 624.10 ⇨

धनहीन

निर्धन 627 20

धना

युवती 231.9

वधू 801 11

धनाढ्य

धनाढ्य 626.14 ⇨

धनाढ्यता

धनाढ्यता 626.3

धनाढ्य व्यक्ति

धनाढ्य व्यक्ति 626.5 ⇨

धनाढ्योचित

धनाढ्योचित 626.17 ⇨

धनाढ्य जन

धनाढ्य जन 626.4 ⇨



**धनाढ्यता**  
धनाढ्यता 626.3 ⇨  
**धनात्मक**  
रचनात्मक 527 11  
स्वीकारात्मक 337 15  
**धनाध्यक्ष**  
कुबेर 779 4  
**धनार्थी**  
धन इच्छुक 628 24  
**धनाशा**  
धन इच्छा 628 3  
**धनाश्री**  
राग रागिनी सूची 457 24  
**धनिक**  
ऋण प्रदाता 633 34  
धनाढ्य 626 14  
धनाढ्य व्यक्ति 626 5  
धनिया 281 21  
पति 803 5  
व्यापारी दैश्य 731 26  
साहूकार 633 4  
**धनिक आहार**  
धनिक आहार 197 9 ⇨  
**धनिकता**  
धनाढ्यता 626 3  
**धनिका**  
युवती 231 9  
**धनिया**  
धनिया 281 21 ⇨  
युवती 231 9  
वधू 801 11  
**धनिया पात**  
साग राज्ञी सूची 189 4  
**धनिष्ठा**  
नक्षत्र सूची 4 6  
**धनी**  
उच्चवित्त 625 7  
ऋण प्रदाता 633 34  
धनाढ्य 626 14  
धनाढ्य व्यक्ति 626 5  
पति 803 5  
भिक्षा दाता 642 21  
युवती 231 9  
वधू 801 11  
व्यापारी 657.2  
सार्थपति 657 14  
साहूकार 633 4  
स्वामी 621 2  
**धनी जन**  
धनाढ्य जन 626 4  
**धनीय**  
धनीय 628.23 ⇨  
**धनु**  
धनुष 926.8  
बागर 552.7  
**धनुआ**  
धुनकी 562.2

**धनु राशि**  
राशि सूची 4 8  
**धनुर्कीर्ण**  
धनुर्विद्या 907 29  
**धनुर्गुण**  
धनुष प्रत्यया 926 15  
**धनुर्ग्राह**  
धनुषधारी 930 13  
**धनुर्ज्या**  
धनुष प्रत्यया 926 15  
**धनुर्धर**  
धनुषधारी 930 13  
राम 770 1  
विष्णु 768 1  
शिव 767 1  
**धनुर्धर राम**  
राम 770 1  
**धनुर्धारी**  
धनुषधारी 930 13  
**धनुर्मध्य**  
धनुष मूठ 926 13  
**धनुर्मार्ग**  
चाप 972 9  
मडल रेखा 968 13  
**धनुर्मज्ज**  
यज्ञ सूची 753 2  
**धनुर्विद्या**  
धनुर्विद्या 907 29 ⇨  
**धनुर्वेद**  
धनुर्विद्या 907 29  
धनुर्वेद 740 38 ⇨  
युद्ध विद्या 907 28  
विष्णु 768 1  
शिव 767 1  
**धनुर्वेदी**  
धनुषधारी 930 13  
**धनुष**  
कमानचा 461 93  
चाप 972 9  
धनुष 926.8 ⇨  
धुनकी 562 2  
मेहराब 611 29  
**धनुष कोटि**  
धनुष छोर 926 14  
**धनुषः छोर**  
धनुष छोर 926 14 ⇨  
**धनुषः जोरी**  
चापकर्ण 972 10  
**धनुषधारी**  
धनुषधारी 930 13 ⇨  
**धनुष ध्वनि**  
धनुष ध्वनि 296 18 ⇨  
**धनुषपाणि**  
धनुषधारी 930 13  
राम 770 1  
**धनुषः प्रत्यया**  
धनुष. प्रत्यया 926.15 ⇨

**धनुष बाण**  
तीर कमान 480 13  
धनुष बाण 926 7 ⇨  
**धनुषः मूठ**  
धनुष मूठ 926 13 ⇨  
**धनुषाकार**  
नवचद्राकार 974 21  
**धनुषाकारता**  
नवचद्राकारता 974 7  
**धनुहा**  
धनुष 926 8  
**धनेच्छा**  
धन इच्छा 628 3  
**धनेच्छुक**  
धन इच्छुक 628 24  
**धनेश्वर**  
कुबेर 779 4  
कोशाध्यक्ष 630 12  
विष्णु 768 1  
शिव 767 1  
**धनेपी**  
धन इच्छुक 628 24  
**धनोण (घ्न)**  
पोजीट्रोन 78 16  
**धन्ना**  
धनाढ्य 626 14  
धरना 902 15  
**धन्य**  
कृतज्ञ 833 8  
धनीय 628 23  
धन्यवाद 833 2  
प्रशसनीय 841 30  
सफल 512 6  
**धन्य [धन्या]**  
सौभाग्यशाली 260 33  
**धन्य धन्य**  
शाबाशी उद्गार सूची 841 40  
**धन्यवाद**  
धन्यवाद 833.2 ⇨  
साधुवाद 841 20  
**धन्यवादक**  
धन्यवादी 833.9  
**धन्यवाद करना**  
धन्यवाद करना 833 7 ⇨  
**धन्यवाद कर्ता**  
धन्यवादी 833.9  
**धन्यवाद देना**  
धन्यवाद करना 833 7  
**धन्यवादपूर्वक**  
धन्यवादपूर्वक 833 12 ⇨  
**धन्यवादी**  
अकृतज्ञ 833.10  
धन्यवादी 833.9 ⇨  
**धन्या**  
धाय माँ 720.2  
सीता माता 770 67  
सुहागन 803 13

**धन्याक**  
धनिया 281.21  
**धन्यतरि**  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
देवता: दैद्य 772 10  
विष्णु चौबीस अवतार सूची 769.9  
**धन्य**  
धनुष 926 8  
**धन्या**  
चाप 972 9  
धनुष 926 8  
धनुषधारी 930 13  
**धन्याकार**  
नवचद्राकार 974 21  
**धन्वी**  
धनुषधारी 930 13  
मीलसिरी 13 20  
**धप्पा**  
तमाचा 918 16  
**धुब्बा**  
दुर्गुण 314 4  
धन्वा 217.2 ⇨  
लाघन 843 7  
**धम्बेदार**  
धम्बेदार 217 7 ⇨  
**धमक**  
धमधमहाट 297 33  
लोहारू 565 15  
**धमकना**  
झपट्टा मारना 914 15  
सहसा आना 1093.8  
**धमकाना**  
डॉटना 373.25  
धमकाना 373 26 ⇨  
**धमकी**  
घुड़की 373.6  
दड नीति 819 6  
धमकी 373.12 ⇨  
द्वेकमेल 864 29  
**धमकी देना**  
धमकाना 373 26  
**धम गजर**  
ऊधम 294.9  
**धमचक**  
उछल कूद 1086.1  
**धम धक्काम**  
धम धक्काम 297.32 ⇨  
**धमधम**  
ठमठम 296 11  
धमधमहाट 297.33  
**धमधमहाट**  
धमधमहाट 297.33 ⇨  
**धमधमहाट**  
धमधमहाट 297 33  
**धमन छिन्न**  
श्वास रंघ 145 18  
**धमन रंघ**  
श्वास रंघ 145 18

## धमन वाद्य

### धमन वाद्य

धमन वाद्य 461.18 ⇨

### धमनिका

धीकनी 85.25

### धमनी

धमनी 131.11 ⇨

धीकनी 85.25

वाहिका 131 10

### धमनी स्वंद

नक्र स्पदन 1039 3

### धम से

अकस्मात् 69.13

### धमाक

बंदूक ध्वनि 296.19

### धमाका

आरंभ संकेत सूची 521.8

क्रांति विस्फोट 903.8

तोप ध्वनि 296 20

धमाका 296.21 ⇨

बंदूक ध्वनि 296.19

### धमा चौकड़ी

उछल कूद 1086 1

ऊधम 294 9

हुल्लक 294.14

### धमाधम

अविरामतः 1049 16

### धमार

राग गायन शैली सूची 460 39

होली गीत 57.33

### धमाल

हुल्लक 294 14

### धमित्र

धीकनी 85 25

### धमूका

मुक्का 918 17

### धम्म

धर्म 735.1

### धम्मसंघ

बौद्ध मठ 745.12

### धरता

धारण कर्ता 1019.22

### धर

आठ वसु सूची 777.8

### -धर

धारण कर्ता 1019.22

### धर

विट 467.18

### -धर

वेत्तघारी 589 26

### धरज

आधार 596.1

घाट 25.20

डाइक 22.5

धड़ 147.1

पुल 1085.6

### धरणि

पृथ्वी 9.1

### धरणिजा

सीता 770.66

### धरणीधर

कूर्म अवतार 769.19

पर्वत 16.3

राजा 882 6

विष्णु 768.1

शेषनाग 778.22

### धरणीरुह

वृक्ष 111.18

### धरणीश्वर

शिव 767 1

### धरता

धारण कर्ता 1019 22

### धरती

धलीय धरातल 25 3

निम्नता उपमान सूची 983 7

पृथ्वी 9.1

### धरती आकाश

धरती आकाश 2 2 ⇨

ब्रह्मांड 1 1

विपरीतता उपमान सूची 310 13

### धरती आकाश में

घतुर्दिशत 29 36

### धरती का फूल

कुकुरमुत्ता 189 13

नव धनाढ्य 626 16

### धरती का स्वर्ग

कश्मीर 28 31

### धरती चुमाना

जीतना 912 12

### धरती चुमना

धराशायी होना 1027 12

### धरती पर आना

अवतार लेना 769 40

अवरोहण करना 1081.47

### धरती पर उतरना

अवतार लेना 769 40

### धरती फोड़ना

उद्भिद होना 117 12

### धरती से उठना

नभोत्तरित होना 1081.45

### धर दबाना

दबोधना 888 31

### धरन

आधारण 1019.5

हठ 349.4

### धरन पुल

छजली पुल 1065.10

### धरना

दबोधना 888.31

धरना 902.15 ⇨

धरना 1019.10 ⇨

नियुक्त करना 853.24

पकड़ना 888 30

### धरना (दे.)

स्थित करना 1020.7

### धरना दाता

धरनेत 902.32

### धरना देने वाला

धरनेत 902 32

### धरनी

टेक स्टैंड 596 8

### धरनेत

धरनेत 902.32 ⇨

### धर पकड़

बंदीकरण 868 1

### धरम

धर्मार्थ दान 641 8

### धरम करम

धर्मार्थ दान 641 8

### धरम कौटा

पचायूती तराजू 962 12

### धरम खाता

धर्मार्थ दान 641 8

### धरचना

पीसना 540 14

फाड़ना 544 16

### धरसना

आक्रमण करना 914 13

दमन करना 911 8

### धरहर

बीच बचाव 877 9

### धरहरिया

बिचोलिया #877 10

### धरा

पृथ्वी 9 1

### धरा [धरी]

अभुक्त 364 9

आधारित 1019.17

बंधकित 633 38

धरा (पूर्वजन्म: द्रोणवसु पत्नी)

यशोदा 771 79

### धराई

आधारण 1019 5

### धरा जाना

धरा जाना 1019.9 ⇨

### धरातल

क्षेत्रफल 966 1

धलीय धरातल 25 3

पृथ्वी 9 1

संपूर्ण धरातल 25 1

### धरातलीय

धलीय 25.30

निम्न 983 5

पृथ्वीय 9.21

### धरातलीय हलचल

भूपृष्ठ संघलन 9.12

### धरातलजा

सीता 770.66

### धरादेव

ब्रह्मदेव 731.13

### धराधरन

पर्वत 18.3

### धराधिप

राजा 882 6

### धराधीरा

राजा 882 6

### धरापन

आधारितता 1019 1

### धरावतरण

लैंडिंग 1081 26

### धराशायिता

धराशायिता 1027 8 ⇨

पटकनी 486 19

### धराशायी

धराशायी 1027 22 ⇨

पटकनी खाया 486 26

भूमिशायी 1027 21

### धराशायी होना

धराशायी होना 1027.12 ⇨

### धरा स्पर्श

टचडाउन 1081 27

### धरित्री

पृथ्वी 9 1

### धरी

रखेली 806 7

### धरेजा

रखेली 806 7

### धरे रहना

प्रयत्न न करना 490 6

### धरेला

जार 806 5

### धरेली

रखेली 806 7

### धरैया

अधिग्रहण कर्ता 635 17

पकड़ने वाला 868 36

बंदी कर्ता 868 35

### धरोहर

धरोहर 633 27 ⇨

बधक 633 18

बंधक वस्तु 633 26

### धरोहर करना

बधक से देना 633 30

### धरोहर द्रोह

बधक द्रोह 633.23

### धर्त

आधारण कर्ता 1019 19

धारण कर्ता 1019 22

### धर्म

आदर्श 829.4

उपमा अलंकार: अंग सूची 454 5

घतुर्वर्ग सूची 761.23

त्रिवर्ग सूची 761.21

धर्म 735.1 ⇨

धर्म 773.32 ⇨

न्याय 874.1

पुण्य 814.1

ब्रह्मा: पुत्र सूची 766.10

मुंहबोला [मुंहबोली] 716.21

युधिष्ठिर 771.80

लक्षण 317.5  
लोक व्यवहार नियम 878 2  
वसु पिता 777.6  
विष्णु 768.1  
धर्म (दे.)  
मत 343 1  
वाद 343.10  
धर्म अनुयायिता  
धर्मानुयायिता 735.5  
धर्म अर्थ काम  
त्रिवर्ग 761 20  
धर्म: अवतार  
विदुर 771 87  
धर्म अवलंबन  
धर्मानुयायिता 735 5  
धर्म अवलंबी  
धर्मानुयायी 735 16  
धर्म अवलंबी जन  
धार्मिक जन साधारण 743.1  
धर्म आदेश  
धर्म आदेश 742 7 ⇨  
धर्म उपदेश  
धर्म उपदेश 742 5 ⇨  
धर्म उपदेशक  
धर्म उपदेशक 742.22 ⇨  
धर्म उपदेशिका  
धर्म उपदेशिका 742 23 ⇨  
धर्म उल्लंघक  
धर्म उल्लंघक 742.31 ⇨  
धर्म उल्लंघन  
धर्म उल्लंघन 742 15 ⇨  
धर्म कथा पाठ  
कथा वाचन 749 18  
धर्म कमाना  
पुण्य करना 814.3  
धर्म करना  
पुण्य करना 814 3  
धर्म कर्तव्य निर्देश  
धर्म आदेश 742.7  
धर्म कर्म  
धर्म कर्म 747 1 ⇨  
धर्मार्थ दान 641.8  
धर्म कर्म: आठंबर  
धर्म कर्म: आठंबर 747.2 ⇨  
धर्म कर्म विषयक  
धर्म कर्म विषयक 747.5 ⇨  
धर्म कौटा  
पंचायती तराजू 962 12  
धर्मकाय  
गीतम बुद्ध 793.1  
धर्मकेतु  
गीतम बुद्ध 793 1  
धर्म गीत  
पूजा गीत 749.25  
धर्मगुप्त  
विष्णु 768 1  
धर्म गुह्य  
धर्म दीक्षक 742.26

धर्म शिक्षक 742.21  
पीर 744.18  
पोप 744.33  
धर्म गोपता  
धर्म रक्षक 742 29  
धर्म गोप्यी  
सत्संग 749 21  
धर्म ग्रंथ  
धर्म ग्रंथ 738.1 ⇨  
धर्म ग्रंथज्ञ  
धर्म ग्रंथज्ञ 738.2 ⇨  
धर्म ग्रंथ विषयक  
धर्म ग्रंथीय 738.5  
धर्म ग्रंथीय  
धर्म ग्रंथीय 738.5 ⇨  
धर्म ग्रहण  
क्रिस्चिग 798.31  
धर्म ग्रहण 742 11 ⇨  
धर्म ग्रहण: विधि सूची  
धर्म ग्रहण विधि सूची 742.12 ⇨  
धर्म घड़ी  
घटाघर 50 26  
धर्म चक्र  
धर्म चक्र 407 16 ⇨  
धर्म प्रवर्तन 742 16  
धर्म सच 737 8  
बुद्ध शिक्षा 793.4  
धर्म चरण  
धर्मशीलता 735 2  
धर्मचर्या  
धर्मशीलता 735.2  
धर्मचारी  
धर्मशील 735.13  
धर्म चिकित्सक  
धर्म चिकित्सक 172.2 ⇨  
धर्म चिकित्सा  
धर्म चिकित्सा 172.1 ⇨  
धर्म चिह्न  
धर्म चिह्न 407.7 ⇨  
धर्मच्युत  
धर्मच्युत 742 32 ⇨  
धर्मज्ञ  
गीतम बुद्ध 793 1  
धर्म ग्रंथज्ञ 738.2  
धर्म ज्ञानी 742 20  
धर्म ज्ञान  
धर्म ज्ञान 742.1 ⇨  
धर्म ज्ञानी  
धर्म ज्ञानी 742.20 ⇨  
धर्मज्ञानी  
धर्म ज्ञानी 742.20  
धर्मज्ञान  
धर्मज्ञान 881.14 ⇨  
धर्मज्ञानवाद  
धर्मज्ञानवाद 884.5 ⇨  
धर्म त्याग  
धर्म त्याग 742.13 ⇨

धर्म दीक्षक  
धर्म दीक्षक 742.26 ⇨  
धर्म दीक्षा  
धर्म दीक्षा 742.9 ⇨  
धर्म दीक्षा देना  
धर्म दीक्षा देना 742.19 ⇨  
धर्म दीक्षित  
धर्म दीक्षित 742.25 ⇨  
धर्म दूत  
ईसा संदेश वाहक 791 12  
धर्म देवता  
धर्म 773 32  
धर्म द्रोही  
राक्षस 784 1  
धर्म धक्का  
खटराग 747.4  
धर्मधातु  
गीतम बुद्ध 793 1  
धर्मधुर्य  
अति धर्मशील 735 14  
धर्मार्थ योद्धा 742.30  
धर्मध्वजी  
धर्म पाखंडी 825 4  
धर्मार्थ योद्धा 742.30  
धर्म नंदन  
युधिष्ठिर 771 80  
धर्मनाथ  
तीर्थकर सूची 792 2  
धर्मनाथ  
विष्णु 768 1  
धर्म निरपेक्षता  
इहलोकतंत्र वाद 884 6  
राष्ट्रवाद 884 27  
धर्म निरपेक्ष राज्य  
इहलोक तंत्र 881 15  
धर्म निर्णायक  
मुफ्ती 744 21  
धर्म निषिद्ध (आहार)  
धर्म निषिद्ध (आहार) 198.12 ⇨  
धर्म निषिद्ध आहार  
धर्म निषिद्ध आहार 198.5 ⇨  
धर्मनिष्ठ  
धर्मशील 735.13  
नमाजगुजार 751 11  
धर्म निष्ठता  
धर्मशीलता 735.2  
धर्मनिष्ठ मुसलमान  
धर्मानुपालक मुसलमान 736.4  
धर्म-नेकी-प्रकार: देवता  
अहुरमज़द 164 13  
धर्म न्याय  
न्याय 874 1  
धर्म: पत्नी  
दाक्षायणी 787.4  
धर्मपत्नी  
पत्नी 803.6  
धर्म: पत्नी  
बुद्धि 774 57

सावित्री 787.25  
धर्म पत्र  
न्यू टेस्टामेंट 739 12  
धर्म पद्यग्रन्थ  
धर्मच्युत 742 32  
धर्म पर चलना  
धर्मशील होना 735 10  
धर्म परायण  
धर्मशील 735 13  
धर्म परायणता  
धर्मशीलता 735 2  
धर्म परिवर्तन  
धर्म परिवर्तन 742 14 ⇨  
धर्म पाखंड  
धर्म पाखंड 825.3 ⇨  
धर्म पाखंडी  
धर्म पाखंडी 825.4 ⇨  
धर्म पाठ  
धर्म पाठ 749.10 ⇨  
धर्म शिक्षा 742 2  
धर्म पाठक  
धर्म पाठी 749 11  
धर्म पाठ करवाना  
धर्म पाठ करवाना 749 41 ⇨  
धर्म पाठी  
धर्म पाठी 749 11 ⇨  
धर्मपाल  
धर्मशील 735 13  
धर्म पालन  
धर्मशीलता 735 2  
धर्म पालन करना  
धर्मशील होना 735 10  
धर्म पालन: प्रतिज्ञा  
प्राजापत्य विवाह 799 26  
धर्म पिता  
धर्म पिता 716.8 ⇨  
धर्म पीठ  
मठ 745.7  
धर्म पीठा  
धर्म उल्लंघन 742 15  
धर्म पुत्र  
धर्म पुत्र 716.10 ⇨  
धर्म: पुत्र  
नर (नारायण) 764.18  
धर्म पुत्री  
धर्म पुत्री 716 11 ⇨  
धर्मपुरी  
यम नगर 256.5  
धर्मपूर्ण  
भक्तिपूर्ण 752.20  
धर्म प्रचार  
धर्म प्रचार 742 17 ⇨  
धर्म प्रचारक  
धर्म प्रचारक 742 28 ⇨  
धर्म प्रदान  
धर्म दीक्षा 742 9  
धर्म प्रवचन  
धर्म उपदेश 742.5

## धर्म प्रवर्तक

**धर्म प्रवर्तक**  
 धर्म प्रवर्तक 742.27 ⇨  
**धर्म प्रवर्तन**  
 धर्म प्रवर्तन 742.16 ⇨  
**धर्म प्रवेश**  
 धर्म ग्रहण 742.11  
**धर्मप्राण**  
 धर्मशील 735.13  
**धर्मभार्य**  
 सहधर्मी 735.19  
 स्वधर्मी 735.17  
**धर्मभीक**  
 धर्मशील 735.13  
**धर्मभ्रष्ट**  
 धर्मघ्युत 742.32  
**धर्म माता**  
 धर्म माता 716.9 ⇨  
**धर्म-मूर्ति: पुत्र**  
 १२ नारायण 764.17  
**धर्म में सम्मिलित करना**  
 धर्म दीक्षा देना 742.19  
**धर्म यात्रा**  
 तीर्थ यात्रा 1089.1  
**धर्मयुक्त**  
 नीतिकतापूर्ण 815.5  
**धर्मयुक्तता**  
 नीतिकता 815.1  
**धर्मयुग**  
 सत्ययुग 40.12  
**धर्मयुद्ध**  
 धर्मार्थ युद्ध 742.18  
 नियम संगत युद्ध 907.32  
**धर्म योद्धा**  
 धर्मार्थ योद्धा 742.30  
**धर्म रक्षक**  
 धर्म रक्षक 742.29 ⇨  
**धर्म रक्षार्थ युद्ध**  
 धर्मार्थ युद्ध 742.18  
**धर्मराज**  
 गीतम बुद्ध 793.1  
 धर्म 773.32  
 यमराज 256.1  
 युधिष्ठिर 771.80  
**धर्म रक्षण**  
 वेद 740.22  
**धर्म रक्षण सूची**  
 धर्म रक्षण सूची 737.29 ⇨  
**धर्मसंत**  
 धर्मशील 735.13  
**धर्म वर्मा**  
 धर्म रक्षक 742.29  
**धर्मवान**  
 धर्मशील 735.13  
**धर्मवास**  
 एकादशी 44.17  
**धर्म बाह्यन**  
 नर भैस 127.20  
 शिव 767.1

**धर्मविद**  
 धर्म ज्ञानी 742.20  
**धर्म विद्या**  
 धर्म ज्ञान 742.1  
**धर्म विधर्म**  
 स्वधर्म परधर्म 735.8  
**धर्म विधि**  
 धर्म विधि 747.3 ⇨  
**धर्म विरोध**  
 नास्तिकतावाद 760.14  
**धर्म विरोध: अवलंबन**  
 धर्मानुयायिता 735.5  
**धर्म-विश्वा: पुत्र**  
 विश्वेदेव 777.9  
**धर्म विषयक**  
 धर्मीय 735.11  
**धर्मवीर**  
 अति धर्मशील 735.14  
 धर्म रक्षक 742.29  
**धर्मबुद्ध**  
 अति धर्मशील 735.14  
**धर्मशाला**  
 धर्मशाला 1090.24 ⇨  
 बरात घर 802.28  
**धर्म शास्त्र**  
 धर्म ग्रंथ 738.1  
 वेदोपांग सूची 740.43  
**धर्म शास्त्रज्ञ**  
 धर्म ग्रंथज्ञ 738.2  
**धर्म शास्त्री**  
 धर्म ग्रंथज्ञ 738.2  
 धर्म ज्ञानी 742.20  
**धर्म शास्त्रीय**  
 धर्म ग्रंथीय 738.5  
**धर्म शिक्षक**  
 धर्म शिक्षक 742.21 ⇨  
**धर्म शिक्षा**  
 धर्म शिक्षा 742.2 ⇨  
**धर्मशील**  
 धर्मशील 735.13 ⇨  
**धर्मशीलता**  
 धर्मशीलता 735.2 ⇨  
**धर्मशील होना**  
 धर्मशील होना 735.10 ⇨  
**धर्म संकट**  
 दुविधा 501.1  
**धर्म संकटग्रस्त**  
 दुविधाग्रस्त 501.8  
**धर्म संकट होना**  
 दुविधा में होना 501.5  
**धर्म संगीति**  
 धर्म सभा 694.3  
 शास्त्रार्थ 324.6  
**धर्मसंघ**  
 धर्म संघ 737.8  
**धर्म संघ**  
 धर्म संघ 737.8 ⇨

**धर्मसंघ**  
 बौद्ध मत 745.12  
 मत 745.7  
**धर्मसंघ अध्यक्ष**  
 मठाधीश 744.1  
**धर्म संग्रदाय**  
 धर्म 735.1  
**धर्म संग्रदाय विषयक**  
 धर्मीय 735.11  
**धर्म संबंध**  
 विवाह संबंध 724.1  
**धर्म संस्कार**  
 संस्कार 798.1  
**धर्म संस्थापक**  
 धर्म प्रवर्तक 742.27  
**धर्म संहिता**  
 धर्म ग्रंथ 738.1  
 विधि संहिता 878.6  
**धर्म सभा**  
 धर्म सभा 694.3 ⇨  
 न्यायालय 874.5  
**धर्म समभाव**  
 सर्वधर्म समभाव 884.7  
**धर्म सम्मत**  
 धर्म सम्मत 735.12 ⇨  
**धर्म सम्मेलन**  
 धर्म सभा 694.3  
**धर्म सापेक्षता**  
 धर्मतंत्रवाद 884.5  
**धर्म सापेक्षता वाद**  
 धर्मतंत्रवाद 884.5  
**धर्म सापेक्ष राज्य**  
 धर्मतंत्र 881.14  
**धर्मसार**  
 पुण्य 814.1  
**धर्म सावर्णि मनु**  
 मनु सूची 788.4  
**धर्म सूत्र**  
 धर्मसूत्र 740.49  
**धर्मसूत्र**  
 धर्मसूत्र 740.49 ⇨  
**धर्मसेतु**  
 शिव 767.1  
**धर्मस्व**  
 धर्मार्थ दान 641.8  
**धर्मस्वामी**  
 गीतम बुद्ध 793.1  
**धर्महीन**  
 धर्महीन 735.15 ⇨  
**धर्म हेतु**  
 लोकार्थ 832.13  
**धर्मांतर**  
 परधर्म 735.8  
**धर्मांध**  
 मतांध 343.18  
**धर्मांधता**  
 मतांधता 343.11

**धर्माचरण**  
 धर्मशीलता 735.2  
**धर्माचार्य**  
 धर्म शिक्षक 742.21  
 धर्माचार्य 790.2 ⇨  
 मठाधीश 744.1  
**धर्माज्ञा**  
 धर्म आदेश 742.7  
**धर्मातिक्रमण**  
 धर्म उल्लंघन 742.15  
**धर्मात्मज**  
 युधिष्ठिर 771.80  
**धर्मात्म्या**  
 धर्मशील 735.13  
 पुण्य कर्ता 814.5  
 युधिष्ठिर 771.80  
**धर्मात्मापन**  
 धर्म पाखंड 825.3  
**धर्मादा**  
 धर्मार्थ दान 641.8  
**धर्मादेश**  
 टेस्टामेंट 739.10  
 धर्म आदेश 742.7  
**धर्माधिकार**  
 न्याय व्यवस्था 874.4  
**धर्माधिकारी**  
 न्यायाधीश 874.15  
 मठाधीश 744.1  
**धर्माधिकारी (दे.)**  
 धर्म उपदेशक 742.22  
**धर्माधिष्ठान**  
 न्यायालय 874.5  
**धर्माध्यक्ष**  
 न्यायाधीश 874.15  
 मठाधीश 744.1  
 विष्णु 768.1  
**धर्मानुचरण**  
 धर्मशीलता 735.2  
**धर्मानुष्ठितन**  
 ज्ञान ध्यान 755.1  
**धर्मानुपालक**  
 धर्मशील 735.13  
 धर्मानुयायी 735.16  
**धर्मानुपालक मुसलमान**  
 धर्मानुपालक मुसलमान 736.4 ⇨  
**धर्मानुपालक होना**  
 धर्मशील होना 735.10  
**धर्मानुपालन**  
 धर्मशीलता 735.2  
**धर्मानुयायिता**  
 धर्मानुयायिता 735.5 ⇨  
**धर्मानुयायी**  
 धर्मानुयायी 735.16 ⇨  
**धर्मानुसरण**  
 धर्मशीलता 735.2  
**धर्माभास**  
 कुधर्म 735.3

**धर्माभिषेक**  
क्रिस्निग 798 31  
**धर्माभिसिचन**  
क्रिस्निग 798 31  
**धर्मारण्य**  
तपोवन 745 6  
**धर्मार्थ**  
दानार्थ 641 22  
परहित 712 4  
लोकार्थ 832 13  
**धर्मार्थ दान**  
धर्मार्थ दान 641.8 ⇨  
**धर्मार्थ भूमि**  
धर्मार्थ भूमि 553 7 ⇨  
**धर्मार्थ यात्रा**  
तीर्थ यात्रा 1089 1  
**धर्मार्थ युद्ध**  
धर्मार्थ युद्ध 742 18 ⇨  
**धर्मार्थ योद्धा**  
धर्मार्थ योद्धा 742 30 ⇨  
**धर्मावतार**  
अति धर्मशील 735 14  
युधिष्ठिर 771 80  
**धर्मावलंबन**  
धर्मानुयायिता 735 5  
**धर्मावलेबी**  
धर्मानुयायी 735 16  
**धर्माश्रित**  
न्यायपूर्ण 874 34  
**धर्मासन**  
न्यायाधीश आसन 874 13  
**धर्मिणी**  
पत्नी 803 6  
**धर्मिष्ठ**  
अति धर्मशील 735 14  
**धर्मो**  
अति धर्मशील 735 14  
धर्मानुयायी 735 16  
धर्मीय 735 11  
**धर्मो कर्मो**  
अति धर्मशील 735 14  
धर्म कर्म विषयक 747 5  
धर्मशील 735 13  
धर्मो कर्मो 747.6 ⇨  
**धर्मोय**  
धर्मोय 735.11 ⇨  
**धर्मोद्ग**  
यमराज 256 1  
युधिष्ठिर 771 80  
**धर्मोत्तर**  
अति धर्मशील 735 14  
**धर्मोपदेश**  
धर्म उपदेश 742.5  
नमाज उपदेश 751.12  
**धर्मोपदेशक**  
धर्म उपदेशक 742.22  
**धर्मोपाध्याय**  
पुरोहित 744.11

**धर्मोत्सलधक**  
धर्म उत्सलधक 742 31  
**धर्मोत्सलघन**  
धर्म उत्सलघन 742 15  
पाप 812 1  
**धर्मित**  
पराजित 913 5  
**धव**  
दोलन 1037 8  
पति 803 5  
पुरुष 236 12  
**धवल**  
उज्ज्वल 218 37  
रजताभ 289 59  
श्वेत 289 65  
**धवल गृह**  
पुता भवन 602 11  
**धवलता**  
श्वेतिभा 289 19  
**धवल पक्ष**  
शुक्ल पक्ष 45 3  
**धवलपक्ष**  
हस 126 76  
**धवला [धवली]**  
श्वेत 289 65  
**धवलित**  
चूना पुता 291 20  
**धवली**  
सफेद निर्य 278 8  
**धस**  
डुबकी 1031 10  
**धसक**  
धंसका 245 13  
**धसकन**  
धंसन 1031 8  
**धसकना**  
धंसना 1031 19  
**धसका**  
धंसका 245 13  
**धसाय**  
धंसन 1031 8  
**धौग**  
धौग 686 15 ⇨  
**धांगङ्ग**  
कूप उत्खनक 19 20  
**धौधलेबाज़**  
घोटालेबाज़ 865.24  
**धांत**  
सात मरुत सूची 781 4  
**धौधल**  
ऊधम 294 9  
छल 827.7  
**धौधलिया**  
ऊधमी 294.32  
**धौधली**  
घोटाला 865.8  
छल 827.7  
जल्दबाज़ी 496.4

न्यायहीनता 874 3  
**धौधली करना**  
घोटाला करना 865 18  
**धौधलेबाज़**  
छली 827 24  
**धौधलेबाज़ी**  
घोटाला 865 8  
**धौय**  
बंदूक ध्वनि 296 19  
**धौय धौय**  
बंदूक ध्वनि 296 19  
**धौय धौय करना**  
अग्नि उड़ीप्त होना 107 11  
**धौस**  
धंसका 245 13  
**धौसना**  
अत्याहार करना 182 11  
गड़ना 1016 38  
घोपना 270 14  
दूसना 1004 10  
**धा**  
धैवत स्वर 459 12  
**धाई**  
धाई 475 30 ⇨  
धाय मौं 720 2  
**धाक**  
पलाश 13 13  
प्रताप 849 5  
प्रतिष्ठा 849 2  
**धाकङ्क**  
प्रतापशाली 849 19  
**धाकहीन**  
प्रतापहीन 850 7  
**धागा**  
ततु 569 1  
धागा 569 7 ⇨  
माला धागा 569 8  
सूती धागा 569 22  
**धागा खोलना**  
मन्त्र उतारना 361 10  
**धागा बाँधना**  
मन्त्र मानना 361 9  
**धागे भरना**  
ककाई करना 577 27  
**धागे में पिरोना**  
पिरोना 573 13  
**धागे में बाँधना**  
सूत्रबद्ध करना 573.12  
**धाङ्क**  
आक्रमण 914 3  
आर्तनाद 386 3  
दल 691.1  
दहाङ्क 298.22  
**धाङ्क मारना**  
विलाप करना 386 23  
**धात**  
वीर्य 130 10

**धाता**  
आत्मा 763 1  
ईश्वर 764 1  
जार 806 5  
त्रिमूर्ति 765 1  
धाता 773.35 ⇨  
पालक पोषक 720 20  
प्रबंधक 655 9  
बारह आदित्य सूची 777 4  
ब्रह्मा 764 24  
ब्रह्मा 766 1  
ब्रह्मा पुत्र सूची 766.10  
विष्णु 768 1  
शासक 890 5  
शिव 767 1  
सकट मोचक 910 10  
सरसक 908 26  
सप्तार्षि 789 12  
सप्तार्षि मंडल 3 10  
**धाता [धात्री]**  
धारण कर्ता 1019 22  
**धातु**  
अस्थि 133 1  
खनिज 92 1  
जीव द्रव्य 129 1  
धातु 93 1 ⇨  
पचभूत 78 8  
वीर्य 130 10  
शब्द धातु 423 9  
**धातु (दे.)**  
धात्विक खनिज 92 3  
**धातुक**  
कच्ची धातु 93.2  
**धातु कर्म**  
धातु कर्म 565 1 ⇨  
धातु शोधन 219 4  
**धातु कौराल**  
धातु कर्म 565 1  
**धातु खरापन**  
धातु खरापन 98 4 ⇨  
**धातु खोट**  
धातु खोट 98.5 ⇨  
**धातुगम्भ (पालि)**  
स्तूप अस्थिपात्र 255.12  
**धातुगर्म**  
स्तूप अस्थिपात्र 255.12  
**धातुगोप**  
अस्थि कलश 253 5  
**धातु घट**  
धातु घट 679 6 ⇨  
**धातुघ्नन**  
धातुघ्नन 565.3 ⇨  
**धातुज**  
खनिज 92.1  
**धातु जारन**  
धातु दहन 108.3  
**धातु दहन**  
धातु दहन 108.3 ⇨

## धातु दहन करना

**धातु बहन करना**  
**धातु दहन करना** 108.11 ⇨  
**धातुनाश**  
 धातुघ्नन 565.3  
**धातु पटल**  
 धातु पटल 990.17 ⇨  
**धातुपत्र**  
 धातु पटल 990.17  
 भस्मान फलक 857.14  
**धातु पिंड**  
 धातु पिंड 976.11 ⇨  
**धातु पिंड सूची**  
 धातु पिंड सूची 976.12 ⇨  
**धातु बरतन**  
 धातु बरतन 680.12 ⇨  
**धातु भस्म**  
 धातु भस्म 176.20 ⇨  
**धातु मैडा डंढा**  
 धातु मैडी लाठी 923.10  
**धातु मैडी लाठी**  
 धातु मैडी लाठी 923.10 ⇨  
**धातु मल**  
 देह मल 215.1  
 धातु मल 214.5 ⇨  
 सीसा 94.14  
**धातु मासिक**  
 सोनामाखी 92.11  
**धातु मान**  
 धातु खरापन 98.4  
**धातु मारण**  
 धातुघ्नन 565.3  
**धातु मिश्रण**  
 मिश्र धातु 93.3  
**धातु मूर्ति**  
 धातु मूर्ति 406.11 ⇨  
**धातुराग**  
 गेरू 290.21  
**धातुरूप**  
 धात्विक 92.5  
**धातु लेपन**  
 धातु लेपन 292.4 ⇨  
**धातुबाद**  
 कीमियागरी 87.6  
 रॉसठ कला सूची 397.4  
**धातुबादी**  
 कांस्यकार 680.31  
 कीमियागरी 87.7  
**धातु विषयक**  
 धात्विक 93.16  
**धातु शोधन**  
 धातु शोधन 219.4 ⇨  
**धातु संकर**  
 धातु जोट 98.5  
**धातु संगलन**  
 धातु संगलन 565.11 ⇨  
**धातु संस्तरण**  
 प्लेटिन 292.9

**धातु स्त्री मूर्ति**  
 धातु स्त्री मूर्ति 406.12 ⇨  
**धातुपल**  
 खड़िया मिट्टी 100.13  
**धातु**  
 धाता 773.35  
**धात्री**  
 दाई 244.6  
 धाय मौं 720.2  
 पृथ्वी 9.1  
 माता 717.7  
**धात्री कर्म**  
 प्रसूति कर्म 244.4  
**धात्रीपुत्र**  
 नट 473.10  
**धात्रीश**  
 शिव 767.1  
**धात्वाभ**  
 धात्विक 92.5  
**धात्विक**  
 धात्विक 93.16  
**धात्विक खनिज**  
 धात्विक खनिज 92.3 ⇨  
**धात्विक**  
 धात्विक 92.5 ⇨  
**धात्विक (त्र)**  
 धात्विक 92.5  
**धात्विककरण**  
 धात्विक 565.2  
**धात्विक**  
 धात्विक 93.16 ⇨  
**धात्विकयन**  
 धात्विकयन 565.2 ⇨  
**धान**  
 आधान स्थान 671.17  
 खादर 552.5  
 चावल 187.9  
 धान 187.11 ⇨  
**धान: क्यारी**  
 धान: क्यारी 551.19 ⇨  
**धान: खेत**  
 धान: खेत 551.7 ⇨  
**धानयूच**  
 मौंड़ 208.17  
**धानसाख**  
 दाल गोश्त 206.33  
**धान सूची**  
 धान सूची 187.12 ⇨  
**धाना**  
 खील 200.8  
 दीरुना 484.13  
 द्रुत गमन करना 1044.5  
 धनिया 281.21  
 बहुविध प्रयत्न करना 489.6  
 सत्तू 192.9  
**धानी**  
 अलमारी 671.1  
 टेक स्टैंड 596.8

**-धानी**  
 डिब्बा 676.1  
**धानी**  
 पिधान 675.3  
**धानी (जैसे: राजधानी)**  
 आधान स्थान 671.17  
**धानुष्क**  
 धुनाई कर्मी 567.6  
**धान्य**  
 अनाज 187.1  
 चावल 187.9  
 धान 187.11  
**धान्यक**  
 धनिया 281.21  
**धान्यकूट**  
 अन्न ढेर 686.9  
**धान्य कोश**  
 अनाज गोदाम 670.18  
**धान्य क्षेत्र**  
 धान खेत 551.7  
**धान्य नाश**  
 फसल नाश 549.2  
**धान्य नाशक**  
 फसल नाशक 549.11  
**धान्य लक्ष्मी**  
 आहार संपन्नता 626.2  
 कृषि देवी सूची 774.5  
**धान्य शल्क**  
 अनाज: छिर्का 116.8  
**धान्यशाली**  
 आहार संपन्नता 626.13  
**धान्य शैल**  
 अन्न ढेर 686.9  
**धान्या**  
 धनिया 281.21  
**धान्यागार**  
 अनाज गोदाम 670.18  
**धान्यारि**  
 घूहा 127.60  
**धान्योत्तम**  
 धान 187.11  
**धाप**  
 एक धाव 484.2  
 थाप 458.51  
 मील 959.25  
**धापना**  
 दीरुना 484.13  
 द्रुत गमन करना 1044.5  
 भरपेट खाना 182.10  
**धापी**  
 थाप 458.51  
**धाबा**  
 छप्पर: किनारा 615.2  
 ढाबा 194.6  
 समतल छत 311.17  
**धाप**  
 आधान स्थान 671.17  
 गृह 601.1

**देव मंदिर** 745.30  
**धूप** 287.8  
**धिष्णु** 768.1  
**शरीर** 139.1  
**सूर्य** 8.1  
**धामक**  
 नारा 962.49  
**धामस धूमस**  
 खटराग 747.4  
**धाय**  
 दाई 244.6  
 धाय मौं 720.2  
 परिचारिका 651.29  
**धाय (उपमाता)**  
 स्तन्य दात्री 207.15  
**धायक [धायिका]**  
 धारण कर्ता 1019.22  
**धाय मौं**  
 धाय मौं 720.2 ⇨  
**धार**  
 अनवरत वर्षा 54.7  
 अर्घ्य 750.5  
 आधार दाता 1019.20  
 छापा 914.8  
 धार 270.7 ⇨  
 धारा 21.14  
 नदी 20.1  
 प्रधार 1032.8  
 प्रवाह 1041.1  
 वर्षा 54.5  
 सीमा 1001.1  
**धारक**  
 धारण कर्ता 1019.22  
 वाहक 1061.20  
 वेशधारी 589.26  
**धार गिरना**  
 धार गिरना 1032.22 ⇨  
**धार षडाना**  
 तीक्ष्ण करना 270.15  
**धारण**  
 अधिभोग 622.1  
 धारण 1019.8 ⇨  
**धारण अधिकार**  
 पट्टेदारी 622.5  
**धारण करना**  
 धारण करना 1019.13 ⇨  
 पहनना 589.22  
**धारण कर्ता**  
 धारण कर्ता 1019.22 ⇨  
**धारण क्षमता**  
 धारण क्षमता 966.4 ⇨  
**धारण पत्र**  
 अधिभोग पत्र 622.4  
**धारण मातृका**  
 रॉसठ कला सूची 397.4

<b>धारण शक्ति</b>	निर्झर 21.8	<b>धारावाही रचना</b>	<b>धार्मिक मान्यता</b>
धर्म 735 1	प्रवाह 1041 1	<i>धारावाही रचना 447.14 ⇨</i>	धर्म 735 1
<b>धारणा</b>	प्रवाहशील जल 21 11	<b>धारा विभाजक</b>	<b>धार्मिक वाद विवाद</b>
धर्म 735 1	मस्तूल. अड्डंडा 1073 14	जल विभाजक 16 7	शास्त्रार्थ 324.6
<i>धारणा 343 7 ⇨</i>	वर्षा 54 5	<b>धारा संगम</b>	<b>धार्मिक देश</b>
पूर्व धारणा 343 8	विद्युत् करंट 102.2	नदी संगम 21 20	<i>धार्मिक देश 589.7 ⇨</i>
मर्यादा 808.5	समुद्री जलधारा 21.17	<b>धारा सभा</b>	<b>धार्मिक होना</b>
योगाग सूची 756 14	सेनाग्र 933 1	विधान परिषद 889 5	धर्मशील होना 735 10
विचार 330 1	<b>धारा (दे.)</b>	<b>धारासार</b>	<b>धार्मिण</b>
<b>धारणाग्रस्त</b>	जल प्रवाह 21 9	अनवरत वर्षा 54 7	मठ 745 7
पूर्व धारणाग्रस्त 343.15	<b>धारा के विपरीत</b>	<b>धारिणी</b>	सत्संग मंडली 749.23
<b>धारणा शक्ति</b>	प्रतिप्रवाह 1096 17	पृथ्वी 9 1	<b>धार्</b>
स्मृतिधरता 356 3	<b>धारा के साथ</b>	<b>धारित</b>	आधारणीय 1019 18
<b>धारणाहीन</b>	अनुप्रवाह 1096 16	पहना [पहनी] 589 24	वाहनीय 1061.19
मतहीन 344 11	<b>धारा के साथ बहना</b>	<b>धारी</b>	<b>धाव</b>
<b>धारणाहीनता</b>	नीका धारा मे डालना 1080 32	उच्चक्रिल रेखा 968.15	एक धाव 484.2
मतहीनता 344 2	<b>धाराग्र</b>	ददाना 970 11	दोड़की 484 1
<b>धारदार</b>	बाण अग्रभाग 926 18	<i>धारी 578.12 ⇨</i>	पलायन 916 1
तीक्ष्ण 270 19	<b>धाराट</b>	महावत 1082 15	पैदल दोड़ 484.7
<i>धारदार 270.21 ⇨</i>	चातक 126 39	रेखा 968 6	रन 475.31
<b>धारना</b>	<b>धाराधर</b>	लीक 1063.16	<b>धावक</b>
धारण करना 1019 13	मेघ 55 1	वाहक 1061 20	दोड़क 484 15
पहनना 589 22	<b>धाराधार</b>	<b>-धारी</b>	धावक संदेश वाहक 443.4
<b>धार फेकना</b>	अनवरत (वर्षा) 54 24	वेशधारी 589 26	धोबी 220 6
प्रधार फेकना 1032 24	<b>धाराधार वर्षा</b>	<b>धारी [धारिणी]</b>	<b>धावक संदेश वाहक</b>
<b>धार बँधना</b>	अनवरत वर्षा 54 7	धारण कर्ता 1019 22	<i>धावक संदेश वाहक 443.4 ⇨</i>
<i>धार बँधना 1032.23 ⇨</i>	<b>धारा निपात</b>	<b>धारीदार गधा</b>	<b>धावन</b>
<b>धार मारना</b>	तीव्र वर्षा 54 11	जेब्रा 127 33	दोड़की 484 1
प्रधार फेकना 1032.24	<b>धारानुकूल नौकायन</b>	<b>धारीदार गिलहरी</b>	धोवन 526 6
<b>धार यंत्र</b>	<i>धारानुकूल नौकायन 1080 2 ⇨</i>	राम गिलहरी 127 65	प्रक्षालन 220.1
पिचकारी 1032.14	<b>धारापथ</b>	<b>धारोष्ण दूध</b>	प्रक्षालित जल 220.3
<b>धारयिता</b>	लीक 1063.16	<i>धारोष्ण दूध 193.5 ⇨</i>	<b>धावन तरणी</b>
धारण कर्ता 1019 22	<b>धारा पात</b>	<b>धार्म</b>	<i>धावन तरणी 1072.29 ⇨</i>
<b>धारयिष्णु</b>	तीव्र वर्षा 54.11	धर्मीय. 735.11	<b>धावन पट्टी</b>
धारण कर्ता 1019 22	<b>धाराप्रवाह</b>	<b>धार्मिक</b>	दोड़ पट्टी 1063.31
<b>धार रखना</b>	अनवरत (वर्षा) 54 24	आध्यात्मिक 761 24	रनवे 1069 20
तीक्ष्ण करना 270 15	अविराम गतिशील 1049 11	धर्म कर्म विषयक 747 5	<b>धावन मार्ग</b>
<b>धार रखैया</b>	<b>धाराप्रवाहिता</b>	धर्म ग्रंथीय 738 5	दोड़ मार्ग 1063 26
तीक्ष्ण कर्ता 270 20	अविरामता 1049 1	धर्मीय 735.11	<b>धावना</b>
<b>धार लगना</b>	<b>धाराबद्ध</b>	पुण्यपूर्ण 814 4	दोड़ना 484 13
धार बँधना 1032.23	तारतम्यपूर्ण 1049.12	विज्ञान विरुद्ध 307 14	<b>धावनी</b>
<b>धारहीन</b>	<b>धारामुख</b>	<b>धार्मिक कृत्य</b>	प्रक्षालन यंत्र 220.9
कुठित 270.24	नोजल 19 30	धर्म कर्म 747 1	<b>धावनी (प्र)</b>
<b>धारहीनता</b>	<b>धाराला [धाराली]</b>	<b>धार्मिक गीत</b>	दोड़ मार्ग 1063.26
कुठितता 270.10	धारदार 270.21	पूजा गीत 749.25	<b>धाव पथ</b>
<b>धारांकुर</b>	<b>धारावाहिक</b>	<b>धार्मिक जन साधारण</b>	दोड़ मैदान 1063.27
ओला 54 15	अविराम गतिशील 1049.11	<i>धार्मिक जन साधारण 743 1 ⇨</i>	<b>धाव प्रतियोगिता</b>
<b>धारांग</b>	धारावाही 447.26	<b>धार्मिकता</b>	दोड़ प्रतियोगिता 484.3
तलवार 924.7	<b>धारावाहिततः</b>	अध्यात्मवाद 760 11	<b>धावव्य</b>
<b>धारा</b>	<i>धारावाहिततः 447.27 ⇨</i>	धर्म कर्म 747.1	प्रक्षाल्य 220.21
अनवरत वर्षा 54 7	<b>धारावाहिता</b>	धर्मशीलता 735.2	<b>धावा</b>
जलधारा 21.15	अविराम गति 1049.2	<b>धार्मिक प्रबचन</b>	आक्रमण 914.3
तारतम्य 1049.3	<b>धारावाही</b>	धर्म उपदेश 742 5	प्रबल आक्रमण 914.7
<i>धारा 21.14 ⇨</i>	अविराम गतिशील 1049.11	<b>धार्मिक भावना</b>	<b>धावा बोलना</b>
नदी 20.1	<i>धारावाही 447.26 ⇨</i>	धर्म 735.1	आक्रमण करना 914.13
नदी पाट 25.12	धारावाही रचना 447.14	<b>धार्मिक भेदभाव</b>	<b>धाविका (प्र)</b>
नियम 879.1	<b>धारावाही: क्रिस्त</b>	संप्रदायवाद 884 23	दोड़ पट्टी 1063.31
नियम. धारा 879.2	<i>धारावाही: क्रिस्त 447.15 ⇨</i>		

## धावित

**धावित**  
 पलायित 916 19  
 प्रक्षालित 220 40  
**धावी**  
 दीडाक 484 15  
 प्रक्षालक 220.41  
**धिक**  
 धिक्कार 843.5  
**धिकधिक करना**  
 धिक्कारना 843 16  
**धिक्कार**  
 डाँट 373.11  
 धिक्कार 843 5 ⇨  
**धिक्कारना**  
 डाँटना 373.25  
 धिक्कारना 843.16 ⇨  
**धिग**  
 धिक्कार 843 5  
**धियांपति**  
 बृहस्पति ग्रह 7 6  
**धिषणा**  
 वापा 299.1  
**धिषणाधिप**  
 बृहस्पति 789 22  
**धिष्ण्य**  
 शक्ति 776.17  
**धिष्ण्य**  
 शुक्राचार्य 789 23  
**धिष्ण्य**  
 अग्नि 106 1  
 उल्का खंड 3.7  
 शक्ति 776 17  
 शुक्र ग्रह 7 9  
 शुक्राचार्य 789.23  
**धीगङ्गा [धीगङ्गी]**  
 बलिष्ठ 160 10  
 महाकाय 154 22  
**धीगाधीगी**  
 चीना झपटी 635 8  
**धीगा धीगी**  
 अत्याचार 835 3  
**धीगामस्ती**  
 ऊद्यम 294 9  
**धीगामुरती**  
 अत्याचार 835 3  
**धीगामुस्ती**  
 चीना झपटी 635.8  
 भागदीड 1084.16  
**धीगी**  
 हेकड़ी 734 10  
**धीद्रिय**  
 ज्ञानेन्द्रिय 268.5  
**धी**  
 कल्पना 308 1  
 धर्म लक्षण सूची 737.29  
 पुत्री 718 10  
 बुद्धि 301.1  
 मनोवृत्ति 351 7

विचार 330 1  
 स्वभाव 836 4  
**धीत**  
 विचारित 330 19  
**धीमा [धीमी]**  
 अप्रबल 488 14  
 अस्पष्ट 823.11  
 उत्साहाहीन 492.13  
 प्रशमित 372 10  
 बुझा [बुझी] 108 18  
 मंद 1045 10  
 मद स्वरिय 299 23  
 वेग रुद्ध 1043 19  
 स्फूर्तिहीन 492.14  
**धीमान [धीमती]**  
 बुद्धिमान 301.21  
**धीमापन**  
 मदता 1045 1  
**धीमा स्वर**  
 मद स्वर 299 6  
**धीमी हवा**  
 बयार 85 14  
**धीमे**  
 मदत 1045 15  
 शिथिल गति से 1045 17  
**धीमे धीमे**  
 विलंबत 495 16  
**धीमे से**  
 ध्वनिहीनत 295 6  
**धीय**  
 पुत्री 718 10  
**धीयस**  
 अहुरमज्द 764.13  
**धीर**  
 धैर्य 394 6  
 धैर्यशील 394 15  
 प्रवीण व्यक्ति 303.9  
 बलि 769 37  
 संयमी 808 17  
 समुद्र 24 1  
 सांत्वना 393 4  
 स्थिरचित्त 355.6  
**धीर [धीरा]**  
 अचंचल 860.25  
**धीरज**  
 धैर्य 394.6  
 निरुद्धिगता 378.3  
 समय 808.8  
**धीरज बाला**  
 धैर्यशील 394 15  
**धीरता**  
 धैर्य 394 6  
**धीर प्रशांत नायक**  
 धीर प्रशांत नायक 456.4 ⇨  
**धीर ललित नायक**  
 धीर ललित नायक 456.5 ⇨  
**धीराधीरा नायिका**  
 मान अनुसार नायिका सूची 456.7

**धीरा नायिका**  
 मान अनुसार नायिका सूची 456 7  
**धीरे**  
 मंदतः 1045 15  
 शिथिल गति से 1045 17  
**धीरे धीरे**  
 विलंबत 495 16  
**धीरे धीरे मालिशा करना**  
 धीरे धीरे मालिशा करना 225.38 ⇨  
**धीरे से**  
 ध्वनिहीनत 295 6  
**धीरोदात्त नायक**  
 धीरोदात्त नायक 456 2 ⇨  
**धीरोद्धत नायक**  
 धीरोद्धत नायक 456 3 ⇨  
**धीवर**  
 पालकी वाहक 1082 21  
 मत्स्य आखेटक 252.16  
**धीवर [धीवरी]**  
 नाविक 1080 21  
**धीवरक**  
 नाविक 1080 21  
**धीवरी**  
 मछली टोकरी 677 9  
**धी शक्ति**  
 बुद्धि 301 1  
**धुँआँ**  
 धूम्र 106 19  
**धुँआरा [धुँआरी]**  
 धूमिल 289 46  
 धूम्रपूर्ण 106 26  
 हलका काला 289 39  
**धुँआरी**  
 धुँआँ. चिमनी 106.21  
**धुँकाई**  
 अग्नि उद्दीपन 107.4  
**धुंकार**  
 गडगड़ाहट 297 10  
**धुंगार**  
 छोक 195.17  
**धुंगारना**  
 छोकना 195 48  
**धुंद**  
 कोहरा 90 10  
**धुंध**  
 कोहरा 90 10  
**धुंधकार**  
 अधकार 286 1  
 औंधी धूल 85 6  
 कोहरा 90.10  
**धुंधलका**  
 धुंधलका 286.4 ⇨  
 धुंधलापन 286.8  
 सायंकालीन अर्धप्रकाश 287.12  
**धुंधलका (दे.)**  
 अर्ध प्रकाश 287 10  
**धुंधला [धुंधली]**  
 अपारदर्शी 282.24

अस्पष्ट 823 11  
 कुदूरय 282 21  
 धुंधला [धुंधली] 286.17 ⇨  
 धूमिल 289 46  
 धूम्रपूर्ण 106.26  
 विवर्ण 291 18  
**धुंधलाना**  
 धुंधलाना 286 13 ⇨  
**धुंधलापन**  
 अपारदर्शिता 282 14  
 कुदूरयता 282 11  
 धुंधलापन 286 8 ⇨  
 विवर्णता 289 23  
**धुंधलाया [धुंधलाई]**  
 धुंधला [धुंधली] 286 17  
 मेघाच्छन्न 55 14  
**धुंधलायापन**  
 मेघाच्छन्नता 55 7  
**धुंधला रंग**  
 विवर्ण रंग 289 24  
**धुंध होना**  
 कुहरा छाना 90 14  
**धुंधार**  
 तीव्र वर्षा 54 11  
 धूमिल 289 46  
 धूम्रपूर्ण 106 26  
**धुंधियाला [धुंधियाली]**  
 धुंधला [धुंधली] 286 17  
**धुंधु**  
 असुर सूची 783 8  
**धुंधुकार**  
 धुंधलापन 286 8  
**धुंधुमार**  
 बीर बहूटी 122 32  
**धुंधुरित**  
 अपारदर्शी 282 24  
 धूम्रपूर्ण 106 26  
**धुंधुआँ**  
 धूम्र 106.19  
**धुंधुआँका**  
 धुंधुआँ. चिमनी 106 21  
 नौका सूची 1072 3  
 वाष्प नौका 1072.11  
**धुंधुआँ. चिमनी**  
 धुंधुआँ. चिमनी 106.21 ⇨  
**धुंधुआँधार**  
 अविरामत 1049 16  
**धुंधुआँधार वर्षा**  
 तीव्र वर्षा 54 11  
**धुंधुआँसा**  
 कालिख 106.18  
**धुंधुआँ से आग का अनुमान**  
 आगम तर्कण 325.12  
**धुंधुआँ पुकड़**  
 आशंका 377 1  
**धुंधुआँक**  
 धकधकाहट 297.30  
 हृदय कंप 1039.5



**धुकधुकाहट**  
धकधकाहट 297 30  
**धुकधुकी**  
आशका 377 1  
धकधकाहट 297 30  
हृदय कप 1039 5  
**धुकनी**  
धूनी 109 4  
**धुकाना**  
आतंकित होना 395 16  
आशकित होना 377 5  
**धुकुर धुकुर**  
आशका 377 1  
धकधकाहट 297 30  
हृदय कप 1039 5  
**धुबंगा [धुबंगी]**  
धूलिमय 100 24  
**धुत**  
मदोन्मत्त 211 15  
**धुतकारना**  
दुतकारना 855 9  
**धुतू**  
तुरही 461 55  
नरसिंघा 461 60  
**धुत्कार करना**  
धुतकारना 855 8  
**धुत्कारना**  
डॉटना 373 25  
**धुत्कृत**  
दुतकृत 855 15  
**धुत्त होना**  
मदोन्मत्त होना 211 10  
**धुत्कार**  
गड़गड़ाहट 297.10  
तुरही ध्वनि 296 12  
**धुन**  
अध्यवसाय 489 4  
आवेश 371 1  
उन्माद 354 4  
खूब 353 11  
प्रेमासक्ति 368 8  
मद 211 1  
मन तरंग 351 6  
लगन 493 4  
लय 458 22  
विचारण 330 5  
सगीत तर्ज 458 14  
**धुनकना**  
धुनना 567.13  
**धुनकी**  
धुनकी 562.2 ⇨  
**धुनकी: बेलन**  
धुनकी बेलन 562.3 ⇨  
**धुनना**  
धुनना 567.13 ⇨  
पिट्टाई करना 918 23  
**धुना**  
धुनाई कर्मी 567 6

**धुनाई**  
धुनाई 567 5 ⇨  
पिट्टाई 918 9  
**धुनाई कर्मी**  
धुनाई कर्मी 567.6 ⇨  
**धुनाई यंत्र**  
धुनाई यंत्र 562 4 ⇨  
**धुनि**  
सात मरुत सूची 781 4  
**धुनिया**  
धुनाई कर्मी 567 6  
**धुनी**  
अध्यवसायी 489 10  
उन्मत्त 354 22  
नदी 20 1  
**धुबिया**  
धोबी 220 6  
**धुमैला [धुमैली]**  
धुंधला [धुंधली] 286 17  
धूमिल 289 46  
धूम्रपूर्ण 106 26  
**धुरंधर**  
अगुआ 346 3  
जुता [जुती] 1079 21  
जूआधारी 1076 29  
जोत पशु 127 6  
प्रतिष्ठित 849 15  
प्रधान 852 10  
प्रवीण 303 22  
प्रवीण व्यक्ति 303 9  
बैल 127.13  
महायोद्धा 934 20  
महा विद्वान 319 3  
शिव 767 1  
हल बैल 127 18  
हलवाहा 548 4  
**धुरंधरता**  
प्रवीणता 303 8  
**धुर**  
अक्ष दंड 1077 12  
छोर पर 1000 16  
जूआ 1076 22  
भार 963 1  
हल जूआ 563 10  
**धुर ऊपर**  
उच्चत 982 12  
पराकाष्ठा पर 534 16  
**धुर किल्ली**  
अक्षाग्र कील 1077 14  
**धुरना**  
दंबरी करना 548 40  
**धुर सामने**  
ठीक सीधे 1098 33  
**धुरा**  
अक्ष दंड 1077.12  
**धुराग्र**  
अक्षाग्र 1077 13

**धुरी**  
अक्ष 1077 11  
अक्ष दंड 1077 12  
गुट 885 9  
घबकी धुरी 560 14  
चक्र बिंदु 971 4  
चूल 609 15  
पृथ्वी अक्ष 10 9  
**धुरी घूर्णन**  
धुरी चक्रण 1033 1  
**धुरी चक्रण**  
धुरी चक्रण 1033 1 ⇨  
पृथ्वी आवर्तन 5 1  
**धुरीण**  
अध्यवसायी 489 10  
कार्य भारी 653 10  
जूआधारी 1076 29  
दायित्व पालक 895 10  
महत्त्वपूर्ण 852 8  
महायोद्धा 934 20  
हलवाहा 548 4  
**धुरीणता**  
निर्णायकता 328 5  
**धुरी दंड**  
अक्ष दंड 1077 12  
**धुरी पर घूमना**  
घूमना 1033 14  
**धुरी परिचक्रण**  
धुरी परिचक्रण 1033 7 ⇨  
**धुरीय**  
कार्य भारी 653 10  
जोत पशु 127.6  
दायित्व पालक 895 10  
हलवाहा 548 4  
**धुरी से लगे लगे परिधि पर चक्रण**  
धुरी परिचक्रण 1033 7  
**धुर्य**  
जूआधारी 1076 29  
बैल 127 13  
शिव 767 1  
**धुला [धुली]**  
प्रक्षालित 220 40  
**धुलाई**  
घोया उतराई 542 6  
धुलाई 218 3 ⇨  
निथराई 1009 11  
प्रक्षालन 220 1  
बरतन मैजाई 218.9  
वस्त्र प्रक्षालन 220 4  
**धुलाई (दे. प्रक्षालन)**  
धुल्यई 218 3  
**धुलाई: कपड़े**  
प्रक्षाल्य वस्त्र 220 5  
**धुलाई करना**  
धोना 220.32  
**धुलाई का पानी**  
प्रक्षालित जल 220 3

**धुलाई घर**  
धुलाईघर 220.8  
**धुलाईघर**  
धुलाईघर 220.8 ⇨  
**धुली दाल**  
धुली दाल 188.5 ⇨  
**धुलेंडी**  
दुलहेंडी 57.32  
**धुवी**  
धूम्र 106 19  
**धुसा [धुसी]**  
धुसा [धुसी] 270 17  
**धुस्त**  
टीला 16 1  
तट बंध 25.19  
**धुस्ता**  
बौध पथ 1066 11  
भारी ऊनी कंबल 593 9  
सहारा दीवार 607 4  
**धुस्ता दीवार**  
सहारा दीवार 607 4  
**धुआँ**  
धूम्र 106 19  
**धुई**  
धूनी 109 4  
**धुत**  
दुतकृत 855 15  
दोलित 1037.24  
**धुतकल्प**  
पापनष्ट 813 10  
**धुतपाप**  
पापनष्ट 813 10  
**धुति**  
अग्नि वर्धन 107 3  
**धुत्क**  
तुरही 461 55  
नरसिंघा 461.60  
**धुतू**  
तुरही 461 55  
तुरही ध्वनि 296 12  
नरसिंघा 461.60  
**धुतूर**  
तुरही ध्वनि 296 12  
**धुथू**  
गड़गड़ाहट 297.10  
तुरही ध्वनि 296 12  
**धुथू करना**  
अग्नि उदीप्त होना 107 11  
**धुन**  
दोलित 1037.24  
**धुनक**  
राल 290.25  
**धुना**  
धुना 274.21 ⇨  
वानिशा 290 15  
**धुनी**  
धूनी 109.4 ⇨

## धूनी जगाना

**धूनी जगाना**  
संन्यास लेना 233.9

**धूनी रमाना**  
संन्यास लेना 233.9

**धूनी राख**  
मभूत 106.17

**धूप**  
गंध धूप 274.17  
ग्रीष्म अनुभूति 53.7  
धूप 287.8 ⇨  
बोडशोपचार सूची 750.4

**धूप का चरमा**  
धूप का चरमा 283.3 ⇨

**धूपघड़ी**  
धूपघड़ी 50.19 ⇨

**धूप बिलबिलाना**  
कड़ी गरमी होना 53.12

**धूपछाँव**  
सुख दुःख 390.1

**धूपछाँह**  
उन्नति अवनति 532.3  
ताम्रता 580.24  
सुख दुःख 390.1

**धूप दिखाना**  
आरती करना 749.44

**धूप में फैलाना**  
कपड़े सुखाना 220.38

**धूप लेना**  
आरती लेना 749.45

**धूप बूझ**  
- चीरू 13.7

**धूपहीन**  
छायादार 286.18

**धूपिया चरमा**  
धूप का चरमा 283.3

**धूम**  
उत्सवपूर्णता 56.2  
उल्का पात 3.8  
ऊधम 294.9  
ख्याति 847.1  
धूम 106.19  
समारोह 694.15

**धूमकेतु**  
धूमकेतु 3.9 ⇨

**धूम ग्रह**  
राहु 6.4

**धूम धक्का**  
आनंद मंगल 382.3

**धूम धक्के से**  
उत्सवपूर्वक 56.11

**धूम धक्का**  
आनंद मंगल 382.3  
उत्सवपूर्णता 56.2

**धूम धक्का**  
मंगल वाद्य ध्वनि 796.10

**धूमधाम**  
आनंद मंगल 382.3  
मंगल वाद्य ध्वनि 796.10

**धूमधामपूर्ण**  
उत्सवपूर्ण 56.9

**धूमधाम से**  
उत्सवपूर्वक 56.11

**धूमध्वज**  
अग्नि 106.1

**धूम नली**  
ऐगजास्ट पाइप 106.22

**धूमप**  
तपस्वी 789.14

**धूम मघना**  
ख्याति होना 847.2

**धूम महिमी**  
कोहरा 90.10

**धूमल**  
धूमपूर्ण 106.26

**धूम्रांग**  
श्रीराम 13.22

**धूमाच्छादित**  
धूमपूर्ण 106.26

**धूमिका**  
कोहरा 90.10

**धूमिल**  
अस्पष्ट 823.11  
कुदृश्य 282.21  
धुंधला [धुंधली] 286.17  
धूमिल 289.46 ⇨  
धूमपूर्ण 106.26

**धूमिलता:**  
अस्पष्टता 823.15

**धूमिलता**  
अस्पष्टता 823.1

**धूमिल होना**  
धुंधलाना 286.13

**धूम्या**  
धूम आवरण 106.20

**धूम**  
धूमिल 289.46  
धूम 106.19 ⇨  
हलका काला 289.39

**धूम आवरण**  
धूम आवरण 106.20 ⇨

**धूमकेश**  
दानव सूची 783.13

**धूमरंडी**  
बीड़ी सिगरेट 213.6

**धूम दंडिका**  
सिगरेट 213.9

**धूमनली**  
बीड़ी सिगरेट 213.6

**धूमपत्र**  
तंबाकू 213.1

**धूमपान**  
धूमपान 213.14 ⇨

**धूमपान करना**  
धूमपान करना 213.29 ⇨

**धूमपूर्ण**  
धूमपूर्ण 106.26 ⇨

**धूम पोत**  
वाष्प नौका 1072.11

**धूमयान**  
रेलगाड़ी 1071.66

**धूमरंध**  
धुआँ धिमनी 106.21

**धूमलोचन**  
कबूतर 126.16  
दानव सूची 783.13

**धूमवर्ण**  
लोबान 274.27

**धूमवर्णा**  
अग्नि जिह्वा सूची 106.10

**धूम बतिका**  
बीड़ी सिगरेट 213.6

**धूमहीन**  
धूमहीन 106.27 ⇨

**धूम्रा**  
दुर्गा 776.7

**धूम्राक्ष**  
राक्षस सूची 784.4

**धूम्राम**  
धूमिल 289.46  
वायु 85.1

**धूम्रावरण**  
धूम्र आवरण 106.20

**धूरा**  
घूरा 938.17

**धूर्जटि**  
शिव 767.1

**धूर्त**  
कुटिल 818.7  
छली 827.24  
लफगा 811.8

**धूर्तक**  
गीदड़ 127.75

**धूर्त जंतु**  
मानव 128.1

**धूर्तता**  
कुटिलता 818.3  
छल 827.7

**धूर्ता**  
दूब घास 11.10

**धूर्धर**  
जुता [जुती] 1079.21

**धूर्य**  
जोत बैल 127.17

**धूल**  
आँधी धूल 85.6  
धूलि 100.4  
मिट्टी 100.8

**धूल धक्का**  
आँधी धूल 85.6

**धूल सना**  
धूलिमय 100.24

**धूलि**  
धूलि 100.4 ⇨

**धूलि कर्म**  
अंक गणित 953.1

**धूलिका**  
धूलि 100.4

**धूलिका पर्व**  
दुलहँडी 57.32

**धूलि केदार**  
जुता खेत 551.12

**धूलि धूसर**  
धूलिमय 100.24

**धूलि धूसरित**  
धूलिमय 100.24

**धूलिध्वज**  
वायु 85.1

**धूलि पुंज**  
धूलि पुंज 100.6 ⇨

**धूलिमय**  
धूलिमय 100.24 ⇨

**धूलेंडी**  
दुलहँडी 57.32

**धूस**  
उच्च मार्ग 1065.3

**धूसर**  
ऊँट 127.27  
धूमपूर्ण 106.26  
धूलिमय 100.24  
धूसर 289.47 ⇨  
मेघाच्छन्न 55.14

**धूसरता**  
धूसरता 289.13 ⇨

**धूसरा [धूसरी]**  
धूसर 289.47

**धूसरिका (प्र)**  
भेजा 140.10

**धूसरित**  
धूसर 289.47

**धूसरितता**  
धूसरता 289.13

**धूत**  
अधिग्रहीत 635.16  
आदत्त 637.6  
आधारित 1019.17  
सन्नद्ध 491.16

**धूतराष्ट्र**  
दानव सूची 783.13  
धूतराष्ट्र 771.65 ⇨

**धूतराष्ट्र: पुत्र**  
युयुत्सु 771.81

**धूतराष्ट्र: मंत्री**  
संजय 771.93

**धूतराष्ट्र संतति**  
कोरव 771.26

**धूतराष्ट्री**  
गांधारी 771.53

**धूतात्मा**  
धैर्यशील 394.15

**धूति**  
अधिग्रहण 635.1

चंद्र कला सूची 8 4  
 धर्म लक्षण सूची 737 29  
 धारण 1019 8  
 धारणा 343 7  
 धैर्य 394.6  
 स्थिति 1020 1  
 स्थिरचित्तता 355 2  
 धृतिमान [धृतिमती]  
 धैर्यशील 394 15  
 सतोषशील 360.19  
 धृतिहीन  
 धैर्यहीन 395.27  
 धृष्ट  
 धृष्ट 734 20 ⇨  
 धृष्टभाषी 432 14  
 धृष्ट (दे.)  
 लज्जाहीन 846 8  
 धृष्टता  
 धृष्टता 734 8 ⇨  
 धृष्टता (दे.)  
 लज्जाहीनता 846 1  
 धृष्टता दिखाना  
 धृष्टता दिखाना 734 12 ⇨  
 धृष्टतापूर्ण  
 धृष्टतापूर्ण 734.21 ⇨  
 धृष्टतापूर्ण व्यवहार करना  
 धृष्टता दिखाना 734 12  
 धृष्टद्युत्न  
 धृष्टद्युत्न 771.66 ⇨  
 धृष्टद्युत्नः पिता  
 हुपद 771.62  
 धृष्ट भाषण  
 धृष्ट भाषण 432.6 ⇨  
 धृष्ट भाषण करना  
 धृष्ट भाषण करना 432.10 ⇨  
 धृष्टभाषी  
 धृष्टभाषी 432.14 ⇨  
 धृष्टताहीन  
 विनम्र 733 19  
 धृष्टोश्चर  
 ज्योतिर्लिग सूची 746 19  
 धेनु  
 गाय 127.10  
 पृथ्वी 9 1  
 धेनुका  
 उपहार 640 2  
 गाय 127.10  
 मादा हाथी 127 39  
 धेय  
 आधारणीय 1019 18  
 विचारणीय 330.20  
 धैर्यना  
 ध्यान करना 331.8  
 धेलबा  
 अधेला 629.7  
 धेला  
 अधेला 629.7

धेला (पुराने रूप में)  
 एक वै अतइखें नम उम्नन सूची 949.25  
 धेला पैसा न होना  
 कगाल होना 627 12  
 धेली  
 अउत्री 629 5  
 धेवता  
 धेवता 722.36 ⇨  
 धेवती  
 धेवती 722 37 ⇨  
 धेनव  
 गाय बछड़ा 230 14  
 धैर्य  
 अध्यवसाय 489 4  
 धैर्य 394 6 ⇨  
 निरुद्धिगता 378 3  
 प्रहार सहन शक्ति 920 2  
 सतोष 360 5  
 समय 808 8  
 साहस 394 1  
 धैर्य दृढता  
 धैर्य भंग होना 395 18  
 धैर्य धारना  
 धैर्य धारना 394.11 ⇨  
 धैर्य न खोना  
 उद्धिन न होना 378 6  
 विचलित न होना 500 8  
 धैर्यपूर्वक  
 धैर्यपूर्वक 394.19 ⇨  
 धैर्य भंग  
 धैर्य भंग 395 11 ⇨  
 धैर्य भंग होना  
 धैर्य भंग होना 395.18 ⇨  
 धैर्यवान  
 अध्यवसायी 489 10  
 अविचल 500 15  
 धैर्यवान [धैर्यवती]  
 धैर्यशील 394.15  
 धैर्यशाली  
 धैर्यशील 394 15  
 धैर्यशील  
 धैर्यशील 394.15 ⇨  
 धैर्यहीन  
 जल्दबाज़ 496 12  
 धैर्यहीन 395 27 ⇨  
 धैर्यहीनता  
 धैर्यहीनता 395 10 ⇨  
 धैवत  
 धैवत स्वर 459 12  
 सप्तक स्वर सूची 459 6  
 धैवत स्वर  
 धैवत स्वर 459.12 ⇨  
 धौंदा  
 लौंदा 938 32  
 धौंधा  
 लौंदा 938.32  
 धौई  
 धुली दाल 188.5

धोखा  
 कूट युक्ति 819.8  
 कृषि रक्षक पुतला 550 3  
 चकमा 819.9  
 छल 827 7  
 भूल 498.3  
 भ्रम 342 1  
 विश्वासघात 827 4  
 सादृश्य आमास 309 4  
 धोखा देना  
 विश्वासघात करना 827 13  
 धोखादेह  
 ठग 864 32  
 धोखादेही  
 ठगी 864 31  
 धोखाधड़ी  
 छल 827 7  
 धोखेबाज़  
 छली 827 24  
 विश्वासघाती 827 19  
 धोखेबाज़ी  
 विश्वासघात 827 4  
 धोखे में  
 विचारहीनता 330.30  
 धोटा  
 पुत्र 718 3  
 धोड  
 बाम 125 9  
 धोतर  
 असघन बुना 576 31  
 झनेना वस्त्र 579 6  
 धोतर 580 27 ⇨  
 धोती  
 धोती 586 15 ⇨  
 साड़ी 586 16  
 धोतीः किनारी  
 किनारी 57 34  
 धोती कुरता  
 जोड़ा सूची 583.17  
 धोती डीली होना  
 भयभीत होना 395 13  
 धोती साड़ी गौठ  
 धोती साड़ी गौठ 586 29 ⇨  
 धोती साड़ीः छोर  
 डब 672 7  
 धोना  
 घोया उतारना 542.14  
 धोना 220.32 ⇨  
 स्वच्छ करना 218.24  
 धोबू  
 प्रक्षाल्य वस्त्र 220 5  
 वस्त्र प्रक्षालन 220 4  
 धोबिन  
 कुररी 126 20  
 जलपक्षी सूची 126.7  
 नवकन्या सूची 774.20  
 धोबी  
 धोबी 220.6 ⇨

धोबी [धोबिन]  
 धोबी 220.6  
 धोबीघाट  
 धोबीघाट 220.7 ⇨  
 धोर  
 किनारा 1000 10  
 धोरण  
 सवारी पशु 127.4  
 धोरा  
 अनुपेक्षा 184.2  
 किनारा 1000.10  
 निकटता 31.1  
 पड़ोस 31 3  
 धोरी  
 कार्य भारी 653 10  
 जूआधारी 1078.29  
 दायित्व पालक 895 10  
 धोर  
 छोर पर 1000 18  
 निकट में 31.9  
 धोवन  
 धोवन 526.6 ⇨  
 प्रक्षालित जल 220.3  
 धोवनः तरल अवशेष  
 धोवन 526 6  
 धौं  
 अथवा 945 13  
 अपूर्ण सभावना उक्ति सूची 68.22  
 धौंकनी  
 धौंकनी 85.25  
 धौंकनी  
 धौंकनी 85.25 ⇨  
 धौंकनी बाघ  
 धमन काघ 461 18  
 धौंज  
 उद्दिगता 377.4  
 धौंजना  
 रौंदना 541.8  
 धौंडाल  
 कैकड़ीला [कैकड़ीली] 987 7  
 धौंस  
 घुड़की 373.6  
 धमकी 373 12  
 प्रताप 849 5,  
 हेकड़ी 734 10  
 धौंसना  
 घुड़कना 373.20  
 दबाना 989 8  
 दमन करना 911.8  
 पिटाई करना 918 23  
 धौंस पट्टी  
 घुड़की 373.6  
 धौंसपट्टी  
 चकमेबाज़ी 819 10  
 धौंसबाज़  
 चकमेबाज़ 819.18  
 धौंसा  
 क्षमता 487.7

## धींसिया

**धींसिया**  
नगाड़ा वादक 461 59

**धीत**  
उज्ज्वल 218.37  
घोंदी 95 3  
प्रकाशित 220 40

**धीलेय**  
संधानमक 279 9

**धीन**  
धूमिल 289.46

**धीरितक**  
दुलकी चाल 1084 27

**धीरेय**  
घोड़ा 127 35  
जूआधारी 1076 29  
जोत बैल 127 17  
प्रधान 852 10

**धीर्य**  
जूआधारी 1076 29

**धील**  
तमाधा 918 16  
मुक्का 918 17

**धील धक्कड़**  
हाथापाई 905.23

**धील धप्यड़**  
हाथापाई 905 23

**धीलहरा**  
मीनार 611 9

**धीला [धीली]**  
उज्ज्वल 218.37  
रजताभ 289 59  
श्वेत 289.65  
स्वच्छ 218.33

**धीसागिरि**  
भारत उपमहाद्वीपः पर्वत सूची 17 1

**धींक्ष**  
कीआ 126 22

**धींक्षी**  
शीतल चीनी 281 31

**धीत**  
फूला [फूली] 988 13

**धीता**  
धीकनी 85 25

**धीन**  
फुलाई 988 5

**धीपित**  
पूर्ण दग्ध 108.16

**धीत**  
विचारित 330 19

**धीतव्य**  
विचारणीय 330 20

**धीता**  
धीनी 331 12

**धीन**  
अनुपेक्षा 184 2  
जैन 737 16  
धीन 331.1 ⇨  
धीनयोग 756 9

योगाग सूची 756 14  
विचारण 330 5  
सत्कार 184 1  
समाधि 755.3  
सावधानी 497 1

**धीन (दे.)**  
अभिमुखता 1023.1

**धीन करना**  
धीन करना 331.8 ⇨

**धीन कर्ता**  
ज्ञानी ध्यानी 755.8

**धीन केंद्रण**  
ज्ञान ध्यान 755 1  
धीन 331 2

**धीन देना**  
रुधि लेना 400 8

**धीन ध्याता ध्येय**  
धीन ध्याता ध्येय 755.2 ⇨

**धीनन**  
ज्ञान ध्यान 755 1  
धीनन 331.2 ⇨  
विचारण 330 5

**धीन न देना**  
उपेक्षा करना 185.5  
सत्कार न करना 185 4

**धीननिष्ठ**  
धीनमग्न 331 11

**धीनपर**  
धीनमग्न 331 11

**धीनपूर्ण**  
सावधान 497 4

**धीनपूर्णता**  
सावधानी 497 1

**धीनपूर्वक**  
धीनपूर्वक 331 16 ⇨  
सावधानतः 497 6

**धीनपूर्वक श्रवण**  
धीनपूर्वक श्रवण 293.4 ⇨

**धीनपूर्वक सुनना**  
धीनपूर्वक सुनना 293.9 ⇨

**धीनबद्ध**  
समाधिस्थ 755.9

**धीन भंग**  
धीन भंग 331.4 ⇨

**धीनमग्न**  
धीनमग्न 331 11 ⇨

**धीनमग्नता**  
तल्लीनता 331.6

**धीनयोग**  
ज्ञान ध्यान 755.1  
धीनयोग 756.9 ⇨

**धीन योग्य**  
विचारणीय 330.20

**धीन रखना**  
उपेक्षा न करना 184.5  
सत्कार करना 184.4

**धीन रखने वाला**  
अनुपेक्षक 184.9

**धीन लगा कर**  
धीनपूर्वक 331 16

**धीन लगाना**  
धीन करना 331.8  
समाधि लगाना 755 7

**धीन विघ्न**  
धीन विघ्न 331 5 ⇨

**धीन से**  
धीनपूर्वक 331 16  
सावधानतः 497 6

**धीनस्थ**  
धीनमग्न 331 11

**धीनस्थता**  
तल्लीनता 331.6

**धीनहीन**  
असावधान 498 6  
धीनहीन 331 13 ⇨

**धीनहीनतः**  
असावधानतः 498 8  
विचारहीनतः 330 30

**धीनहीनता**  
असावधानी 498 1  
धीनहीनता 331 3 ⇨

**धीनाधीन**  
विचाराधीन 330 21

**धीनावस्था**  
समाधि 755 3

**धीनावस्थित**  
धीनमग्न 331.11  
समाधिस्थ 755 9

**धीनावस्थितता**  
तल्लीनता 331 6  
समाधिस्थता 755 4

**धीनावस्थित होना**  
तल्लीन होना 331 9

**धीनी**  
ज्ञानी ध्यानी 755.8  
धीनमग्न 331.11  
धीनी 331.12 ⇨

**ध्येय**  
उद्देश्य 508.2  
विचारणीय 330 20  
शिव 767.1

**ध्येयपूर्ण**  
प्रयोजनपूर्ण 508.6

**ध्येयहीन**  
उद्देश्यहीन 509.4

**ध्येयहीनता**  
उद्देश्यहीनता 509 2  
उद्देश्यहीनता 509.2

**धीर्गंघ्रिय (नाक)**  
ज्ञानेंद्रिय सूची 268.6

**धुपद**  
राग गायन शैली सूची 460.39

**धुव**  
अवश्यभावी 68.15  
अविचल 500 15  
आठ वसु सूची 777.8

उत्तर ध्रुव तारा 3 12  
गीत स्थायी 451 23  
दीर्घ कालीन 37 10  
धैर्यशील 394 15  
नाक नोक 142.4  
पृथ्वी ध्रुव 10 10  
बरगद 13 16  
ब्रह्मा 766 1  
शाश्वत 37.7  
शिव 767 1

**ध्रुवक**  
गीत. स्थायी 451.23

**ध्रुवता**  
अविचलता 500 5  
धैर्य 394 6  
निश्चलता 1038 2  
स्थिरचित्तता 355 2

**ध्रुव तारा**  
उत्तर ध्रुव तारा 3 12

**ध्रुव ताल**  
ध्रुव ताल 458.48 ⇨

**ध्रुव दर्शक**  
कुतुबनुमा 29 20

**ध्रुव दिशा**  
उत्तर 29 9

**ध्रुव रहना**  
विचलित न होना 500.8

**ध्रुव सागर**  
उत्तर ध्रुव महासागर 24 15

**ध्रुवा**  
पतिव्रता 805 6

**ध्रुवाक्षर**  
विष्णु 768.1

**ध्रुवीकरण**  
ध्रुवीकरण 885.12 ⇨

**ध्रुवीकरण होना**  
ध्रुवीकरण होना 885.25 ⇨

**ध्रुवीकृत**  
ध्रुवीकृत 885.41 ⇨

**ध्रुवीकृतता**  
द्विध्रुवता 885 13

**ध्रुवस**  
तोड़फोड़ 539.4  
नाश 531 1

**ध्रुवसक**  
उत्तरोत्तर 1072 46  
नाशक 531 8  
विध्वंसक शस्त्र 922 6

**ध्रुवसहीन**  
अनश्वर 37 9

**ध्रुवसहीनता**  
अनश्वरता 37.3

**ध्रुवसात्मकता**  
नाशकता 531 2

**ध्रुवसावरोध**  
खंडहर 539 5

**ध्रुवसास्त्र**  
विध्वंसक शस्त्र 922.6

**ध्वंसी**  
तोड़फोड़ कर्ता 539 19  
नश्वर 38 7  
नाशक 531 8

**ध्वज**  
उत्तमता उपमान सूची 313 4  
ध्वजा 408 4  
सीमा चिह्न 1001 15

**ध्वजक**  
मस्तूल आड़ 1073 13

**ध्वज दंड**  
ध्वज दंड 408.5 ⇨

**ध्वज द्रुम**  
ताड़ 13 8

**ध्वजवाह**  
ध्वजा वाहक 408 18

**ध्वज वाहक**  
ध्वजा वाहक 408 18

**ध्वज याहिनी**  
सेना 932 1

**ध्वज स्तंभ**  
गरुड़ स्तंभ 607 11  
ध्वज दंड 408 5

**ध्वजा**  
ध्वजा 408 4 ⇨

**ध्वजा अभिवादन**  
ध्वजा अभिवादन 1060 20 ⇨

**ध्वजा आनमन**  
ध्वजा नमन 1060 24

**ध्वजा उठाना**  
ध्वजा वहन करना 408 15

**ध्वजा दंड**  
ध्वज दंड 408 5

**ध्वजाधर**  
पक्षधर 885 33

**ध्वजाधरता**  
पक्षधरता 885 1

**ध्वजाधारी**  
ध्वजा वाहक 408 18  
पक्षधर 885 33

**ध्वजा नमन**  
ध्वजा नमन 1060 24 ⇨

**ध्वजा फहराना**  
ध्वजारोहण करना 408 16

**ध्वजाभिवादन**  
ध्वजा अभिवादन 1060 20

**ध्वजारोहण**  
ध्वजारोहण 408 9 ⇨

**ध्वजारोहण करना**  
ध्वजारोहण करना 408 16 ⇨

**ध्वजा वहन**  
ध्वजा वहन 408.8 ⇨

**ध्वजा वहन करना**  
ध्वजा वहन करना 408.15 ⇨

**ध्वजा वाहक**  
ध्वजा वाहक 408.18 ⇨

**ध्वजाहस्त दास**  
विजित दास 651.15

**ध्वजिनी**  
सेना 932 1

**ध्वजी**  
ध्वजा वाहक 408 18  
पक्षधर 885 33  
ब्राह्मण 731 13  
मोर 126 68  
रथ 1071 46

**ध्वजोत्तोलन**  
ध्वजारोहण 408 9

**ध्वजोत्थान**  
ध्वजारोहण 408 9

**ध्वनक**  
वादक 461 2

**ध्वनन**  
ध्वनन 294 2 ⇨

**ध्वनि**  
अर्थ 426 1  
ध्वनि 294 1 ⇨  
वाचेतर ध्वनि 296 1  
विश्वेदेव सूची 777 10  
शिव 767 1  
सादृश्य आभास 309 4  
स्वर भंगिमा 299 4

**ध्वनि (दे.)**  
वाचा 299 1

**ध्वनि आना**  
सादृश्य आभास होना 309 12

**ध्वनि आलेखन**  
ध्वनि लेखन 300 11

**ध्वनिकर**  
ध्वनिकारी 294 22

**ध्वनि करना**  
ध्वनि करना 294 15 ⇨

**ध्वनिकारी**  
ध्वनिकारी 294 22 ⇨

**ध्वनि गति**  
स्वन गति 1042 5

**ध्वनि गति अनुपात**  
माख सख्या 1042 7

**ध्वनि ग्राहित्र (प्र)**  
माइक्रोफोन 300 8

**ध्वनि घई**  
साउंड ट्रैक 300 17

**ध्वनित**  
ध्वनित 294 21 ⇨  
वादित 461 105  
विवक्षित 426 32

**ध्वनि तरंग**  
ध्वनि तरंग 1040.4 ⇨

**ध्वनि न होना**  
ध्वनि न होना 295 3 ⇨

**ध्वनि नियंत्रण**  
ध्वनि नियंत्रण 300 1 ⇨

**ध्वनि परिवर्तन**  
काकु 465 14

**ध्वनिपूर्ण**  
ध्वनिपूर्ण 294 20 ⇨

**ध्वनि प्रसारण**  
ध्वनि प्रसारण 300.2 ⇨

**ध्वनि भेद**  
काकुक्ति 434 8

**ध्वनि माप**  
स्वन माप 958 45

**ध्वनि मुद्रण**  
ध्वनि लेखन 300 11

**ध्वनिरोध**  
ध्वनि रोधक 300 4

**ध्वनि रोधक**  
ध्वनि रोधक 300 4 ⇨

**ध्वनि रोधत्र (प्र)**  
ध्वनि रोधक 300 4

**ध्वनि रोधन**  
ध्वनि रोधन 300 3 ⇨  
ध्वनि रोधन 920 4 ⇨

**ध्वनिलेख**  
ध्वनिलेख 300 10 ⇨

**ध्वनि लेखक**  
ध्वनि लेखक 300 12 ⇨

**ध्वनि लेखन**  
ध्वनि लेखन 300 11 ⇨

**ध्वनि लेखन कर्मी**  
ध्वनि लेखक 300 12

**ध्वनि लेखन यंत्र**  
ध्वनि लेखन यंत्र 300 13 ⇨

**ध्वनि लेखित्र**  
ध्वनि लेखन यंत्र 300 13

**ध्वनिवाद**  
हिंदी काव्य सिद्धांत सूची 453 12

**ध्वनि वारण**  
ध्वनि रोधन 920 9

**ध्वनिवाही आकाश**  
वायु उडल 2 6

**ध्वनि विकार**  
काकु 465 14

**ध्वनि विस्तारक**  
लाउड स्पीकर 300 9

**ध्वनि विस्तारण**  
ध्वनि विस्तारण 300 6 ⇨

**ध्वनिबेध**  
ध्वनि 931 14

**ध्वनि वेधक**  
ध्वनिवेधी 931 25

**ध्वनि वेधन**  
ध्वनि वेधन 931 14 ⇨

**ध्वनिवेधी**  
ध्वनिवेधी 931.25 ⇨

**ध्वनिहीन**  
ध्वनिहीन 295 4 ⇨

**ध्वनिहीनता**  
ध्वनिहीनता 295 6 ⇨

**ध्वनिहीनता**  
ध्वनिहीनता 295.1 ⇨

**ध्वनिहीन होना**  
ध्वनिहीन होना 295.2 ⇨

**ध्वनीय**  
ध्वनीय 294 19 ⇨

**ध्वन्य**  
ध्वनीय 294 19

**ध्वन्यवरोध**  
ध्वनि रोधक 300 4

**ध्वन्यवरोधन**  
ध्वनि रोधन 300 3

**ध्वन्यात्मक**  
व्यजनात्मक 426 31

**ध्वन्यात्मक ध्वनि**  
वाचेतर ध्वनि 296 1

**ध्वन्यार्थ**  
व्यजनार्थ 426 6

**ध्वन्यार्थक**  
व्यजनात्मक 426 31

**ध्वन्यालेखक**  
ध्वनि लेखक 300 12

**ध्वन्यावृत्ति**  
अनुभास अलंकार 454 9

**ध्वन्य**  
नष्ट 531 7

**ध्वनिनिर्दान**  
ध्वजा अभिवादन 1060 20

न

**नंग**  
जार 806 5  
नग्न 590 16  
नग्नता 590 1

**नंगाई**  
अंग प्रदर्शन 590 7  
नग्नता 590 1

**नंगा धर्मग**  
नग्न 590 16

**नंगा मुनंग**  
नग्न 590 16

**नंगा**  
शिव 767 1

**नंगा (नंगी)**  
अपिधानित 675.19  
अश्लील 734 18  
छिला [छिली] 542.18  
नग्न 590 16  
पल्लवहीन 115 14  
रोमहीन 135 12  
लज्जाहीन 846 8

**नंगा कर देना**  
अपमानित करना 855 6

**नंगाझोरी**  
खाना तलाशी 336 14

**नंगाझोली**  
खाना तलाशी 336.14

**नंगापन**  
अश्लीलता 734 7  
नग्नता 590 1

## नंगा पर्वत

<b>नंगा पर्वत</b>	<b>नंदन कानन</b>
भारत उपमहाद्वीप: पर्वत सूची 17.1	श्रीका उपवन 12.14
<b>नंगा चुंगा [नंगी चुंगी]</b>	<b>नंदन बन</b>
नग्न 590.16	देवता: उद्यान 772.12
<b>नंगा बूझा [नंगी बूझी]</b>	देवता. उद्यान सूची 772.13
अगलंकृत 227.5	<b>नंदना</b>
कंगाल 627.21	पुत्री 718.10
नग्न 590.16	<b>नंदनी</b>
<b>नंगा बूझा [नंगी बूझी]</b>	पुत्री 718.10
कंगाल 627.21	<b>नंदपुत्री</b>
<b>नंगा होना</b>	योग माया 771.82
परिधान उतारना 590.14	<b>नंद बाबा</b>
<b>नीगियाना</b>	नंद 771.67
लूटना 864.47	<b>नंद-यशोदा: पुत्री</b>
<b>नंगी बीक</b>	योग माया 771.82
स्ट्रीकिंग 590.10	<b>नंदरानी</b>
<b>नंगे खानवान</b>	यशोदा 771.79
कुल कलंक 728.19	<b>नंदलाल</b>
<b>नीग्याबना</b>	कृष्ण 771.1
लूटना 864.47	<b>नंधा</b>
<b>नीचना</b>	ननद 724.32
पार जाना 1097.9	<b>नंदहत्याजा</b>
<b>नंधत</b>	योग माया 771.82
पुरुष मित्र 705.2	<b>नंदिकेश</b>
प्रसन्न कर्ता 381.8	शिव 767.1
<b>नंधती</b>	<b>नंदिकेश्वर</b>
पुत्री 718.10	नंदी 767.14
<b>नंध</b>	शिव 767.1
आनंद 382.1	<b>नंदिद्योष</b>
कृष्ण: पालक पिता 771.8	आनंद ध्यनि 382.10
नंद 771.87 ⇌	<b>नंधित</b>
ननद 724.32	आनंदित 382.17
नौ उपमान सूची 948.34	<b>नंधिनी</b>
प्रसन्नताप्रद 381.9	गंगा नदी 20.10
विष्णु 768.1	तुलसी 13.9
संतोषप्रद 360.20	दुर्गा 776.7
<b>नंधक</b>	ननद 724.32
पुत्र 718.3	नवशक्ति सूची 776.19
प्रसन्नताप्रद 381.9	पुत्री 718.10
विष्णु: खड्ग 924.5	पौराणिक गाय सूची 127.11
संतोषप्रद 360.20	रेणुका 274.25
<b>नंध किराोर</b>	<b>नंधिनी हता</b>
कृष्ण 771.1	द्यो 773.31
बालकृष्ण 771.4	<b>नंधिमूख</b>
<b>नंध कुमार</b>	शिव 767.1
कृष्ण 771.1	<b>नंधी</b>
<b>नंध नंदन</b>	नंदी 767.14 ⇌
कृष्ण 771.1	नांदी पाठक 468.22
बालकृष्ण 771.4	पुत्र 718.3
<b>नंध नंधिनी</b>	बरगद 13.16
योग माया 771.82	विष्णु 768.1
<b>नंधन</b>	<b>नंधीश्वर</b>
आनंदप्रद 382.18	शिव 767.1
देवता उद्यान 772.12	<b>नंधोषी</b>
पुत्र 718.3	ननदोई 724.34
मेष 55.1	<b>नैबना</b>
विष्णु 768.1	आरंभ होना 984.10
शिव 767.1	

<b>नैधा [नैधी]</b>	<b>नई कल्पना</b>
जुता [जुती] 1079.21	नई कल्पना 308.2 ⇌
<b>नैधाई</b>	<b>नई कोमल दाढ़ी</b>
आबद्धन 1013.1	नई कोमल दाढ़ी 136.4 ⇌
नत्थीकरण 417.13	<b>नई चीज़</b>
नैकाई 592.7	आविष्कार 307.5
यान जुताई 1079.1	<b>नई चीज़ बनाना</b>
संग्रथन 573.1	आविष्कार करना 307.9
<b>नंबर</b>	<b>नई छाप</b>
क्यू क्रम 991.9	रीप्रिंट 419.9
पता निर्देश 444.14	<b>नई जगह जाना</b>
पत्र पत्रिका अक 445.3	स्थान परिवर्तन करना 1036.9
पारी 70.9	<b>नई जान पहचान</b>
संख्या अक 948.3	नव परिचितता 704.8
<b>नंबर (अं)</b>	<b>नई जान पहचान कराना</b>
आकार माप 961.1	परिचित कराना 704.16
बारी 70.8	<b>नई तरह</b>
संख्या 948.1	नवतः 532.24
<b>नंबर एक</b>	<b>नई दिस्ली</b>
पहला [पहली] 948.85	केन्द्र सरकार 890.14
प्रथम स्थानीय 707.11	भारत राजधानी 28.2
<b>नंबर डालना</b>	<b>नई दुनिया</b>
क्रमांकन करना 991.17	पश्चिमी भूगोलार्ध 10.7
<b>नंबरदार</b>	<b>नई परिस्थिति</b>
ग्राम: मुखिया 892.6	नई परिस्थिति 69.7 ⇌
<b>नंबर दो</b>	<b>नई मुलाक़ात</b>
दूसरा [दूसरी] 948.86	नव परिचितता 704.8
द्वितीय स्थानीय 707.12	<b>नई मूँछ</b>
<b>नंबर पर</b>	मूँछ आरंभिक रूप 136.6
क्यूबद्धतः 981.32	<b>नई विधि: प्रयोग</b>
<b>नंबरवार</b>	नव प्रयोग 307.6
क्यूबद्धतः 991.32	<b>नई स्थिति</b>
<b>नंबर से</b>	नई परिस्थिति 69.7
क्यूबद्धतः 991.32	<b>नउआ</b>
<b>नंबरिंग करना</b>	क्षीर कर्मी 224.2
क्रमांकन करना 991.17	<b>न उकने वाला रंग</b>
<b>नंबरिंग मशीन (अं)</b>	पक्का रंग 289.26
क्रमांकन यंत्र 991.15	<b>नउबा</b>
<b>नंबरी</b>	क्षीर कर्मी 224.2
कुख्यात 848.4	<b>नए ज़माने का</b>
दोबबाज़ 819.19	आधुनिक 64.7
दुर्जन 818.5	<b>नए जैसा</b>
<b>नंगुक</b>	नववत 632.22
सूक्ष्मतम 980.22	<b>नए फ़ैशन का</b>
<b>न</b>	फ़ैशाना नुकूल 222.18
नहीं 338.51	<b>नए सिरे से</b>
<b>न-</b>	नवतः 532.24
रहित: उपसर्ग सूची 1007.5	<b>नक कटा [नक कटी]</b>
<b>न आना</b>	नकटा 153.17
अनुपस्थित होना 1022.5	<b>नककटा [नककटी]</b>
<b>न इति</b>	लज्जाहीन 846.8
नेति 741.28	<b>नकचका [नकचकी]</b>
<b>नई</b>	दुराराध्य 400.22
गीनहाई 799.86	<b>नकचकापन</b>
<b>नई अधिनेत्री</b>	सुरुभिमन्यता 400.7
स्टारलेट 484.18	<b>नकचौंटी</b>
<b>नई आगुति</b>	नकचौंटी 559.44 ⇌
रीप्रिंट 419.9	

नकछिवा [नकछिदी]  
नकछिदा [नकछिदी] 798.43 ⇨  
नकछेदन  
नकछेदन 798 17 ⇨  
नकछेदन होना  
नकछेदन होना 798.36 ⇨  
नकछेदी  
नकछिदा [नकछिदी] 798 43  
न कटना  
प्रहार न बचना 919.6  
नकटा  
खोडिया 800 8  
नकटा 153 17 ⇨  
नकटा [नकटी]  
नकटा 153 17  
नकटी  
शूर्पणखा 784 27  
नकतोडा  
नाज नखरा 860 1  
नक्रद  
रोकड़ 630.9  
नक्रद क्रय  
नक्रद क्रय 660.6 ⇨  
नक्रद भुगतान  
नक्रद क्रय 660 6  
नक्रद लेनदेन  
नक्रद सीदा 658.5  
नक्रद बसुली  
नक्रद विक्रय 661.5  
नक्रद विक्रय  
नक्रद विक्रय 661.5 ⇨  
नक्रद सीदा  
नक्रद सीदा 658.5 ⇨  
नक्रदी  
रोकड़ 630 9  
नक्रदी क्रसल  
नक्रदी फसल 547.3 ⇨  
नक्रब  
संघ 864.16  
नक्रबजन  
संघमार 864.17  
नक्रबजनी  
संघमारी 864.15  
नक्रबेसर  
नथ 228.15  
न कमाना  
अर्जन न करना 649.5  
न करना  
न करना 505.14 ⇨  
नकरा  
नक्र धरियाल 123.6  
नक्रल  
अनुकरण 505.8  
अनुकृत 505.30  
अनुकृति 397.27  
अभिनय 484.2  
टिपाई 322.19  
पैरोजी 450.27

प्रतिरूप 967.9  
प्रतिलिपि 414 1  
मुद्रित प्रति 419.8  
नक्रल करना  
अनुकरण करना 505.16  
टिपाई करना 322 35  
नक्रलकार  
प्रतिलिपिक 414 2  
नक्रलची  
अनुकरण कर्ता 505.31  
फ्रेशनाप्रिय 222 19  
विदूषक 467 19  
स्वींगी 484.14  
नक्रल नवीस  
प्रतिलिपिक 414 2  
नकसर  
ऐल्गोरिदम 955.20  
नक्रली  
अवास्तविक 821 20  
कूटकृत 98.14  
खोटा [खोटी] 98 13  
दिखावटी 825 5  
प्रतिरूपी 967 19  
नक्रली चमड़ा  
रेक्सीन चमड़ा 581.11  
नक्रली चौब  
कृत्रिम उपग्रह 1075 12  
नक्रलीपन  
अविशुद्धता 219 3  
मानव रचितता 527 5  
नक्रली मित्रता  
सस्वार्थ मित्रता 705.7  
नक्रली वेश  
छद्म वेश 589 16  
नक्रली साधु  
नक्रली साधु 790 18 ⇨  
नक्रली सिक्का  
कूट मुद्रा 98 8  
नक्रशा  
आरंभिक अवस्था सूची 994 23  
पता निर्देश 444 14  
पथचित्र 1087.27  
परिकल्पना 520.5  
मानचित्र 10 17  
नकसीर  
नकसीर 215 19 ⇨  
न कहना  
अभिव्यक्ति न करना 429.11  
न कहना 429.12 ⇨  
रहस्य न खोलना 823 10  
नक्राब  
घूँघट 591.3  
नक्राब 589.18 ⇨  
नक्राब  
बुरका नक्राब 591 5  
नक्राबपोरा  
नक्राबपोरा 589.19 ⇨

नक्राब लगाना  
छद्म आवरण में होना 824.19  
नक्रार  
अस्वीकृति 338 1  
नास्तिकतावाद 760.14  
नकारची  
नगाड़ा वादक 461 59  
नकारना  
अस्वीकार करना 338 18  
मुकरना 338 25  
बचन तोड़ना 338.30  
नकारात्मक  
अस्वीकारात्मक 338.32  
नकासना  
उत्कीर्ण करना 406 36  
नकिचन  
अपरिग्रही 360 18  
न किए जाना  
न होना 505 15  
नकियाना  
परेशान होना 519 16  
नकियाब  
नैकनापन 299 17  
नकीर  
नकीरेन सूची 256 11  
नकीर ह्य  
नकीरेन 256 10  
नकीरेन  
नकीरेन 256 10 ⇨  
नकीरेन सूची  
नकीरेन सूची 256 11 ⇨  
नकुल  
नकुल 771.68 ⇨  
नेवला 127.69  
पंच पाठ्य सूची 771 29  
नकुलक  
रुपया धैली 672.10  
नकुल सहदेव  
नकुल सहदेव 771.09 ⇨  
नकुलाग्नि  
सेबल 582 21  
नकुलीला धैरव  
धैरव गण सूची 787.33  
नकुशा  
मुख मंडल 140 11  
नकेटी  
नासिका मल 215.17  
नकेल  
नकेल 555.18 ⇨  
नियंत्रण: उपमान सूची 899.27  
नकेल ह्यथ में होना  
वशाधीन होना 901.5  
नकका  
कीड़ी 479.26  
छिद्र 271.8  
नुक्कड़ 1064.8  
सुई नाका 562.24  
सूक्ष्म छिद्र 271.13

नक्रकार खाना  
केलाहलसूर्पा: उपमान सूची 294.33  
नक्रकारची  
नगाड़ा वादक 461.59  
नक्रकारा  
अंतिम अवसर 70.7  
नगाड़ा 461.58  
नक्रकारा  
उत्कीर्ण कर्ता 406.24  
चित्रकार 404.25  
रंग भरिया 404 37  
नक्रकाराची  
उत्कीर्ण कृति 406.24  
नक्रकाराची  
उत्कीर्णन 406.19  
नक्रकाराची करना  
उत्कीर्ण करना 408.36  
नक्रकाराचीदार  
उत्कीर्ण 406 41  
नक्क  
दुराराध्य 400.22  
नक्तचर  
उल्लू 126.14  
घोर 864 3  
भूत 786.1  
राक्षस 784.1  
रात्रिचर 48 14  
नक्तचरी  
भूतनी 786.2  
नक्तचारी  
शिव 767 1  
नक्त  
रात 48 1  
सायंकाल: अंतिम क्षण 47 14  
नक्तचर  
भूत 786.1  
नक्तचरी  
भूतनी 786.2  
नक्तचारी  
पिशाच 786.8  
विल्ली 127.58  
राक्षस 784.1  
नक्रवी धिट्टा  
रोकड़ बही 632.19  
नक्र  
नक्र धरियाल 123.6  
नक्र धरियाल  
नक्र धरियाल 123.6 ⇨  
नक्रराज  
नक्र धरियाल 123.6  
नक्रा  
नक्र धरियाल 123.6  
नक्रा  
गुलकारी 577.15  
चित्र 404.1  
चित्रांकित 404.36  
चिह्नित 407.23  
ठाप 414.11

## नदशब्दी

**नदशाब्दी**  
 चित्राकन 404 24  
**नदशा**  
 कैरिकेचर 404 13  
 चित्र 404 1  
 निर्माण परिकल्पना 599 15  
 परिस्थिति 69 5  
 युक्ति 517 1  
 योजना 520 1  
 रचना विन्यास 527 8  
**नदशा नदीसी**  
 निर्माण आयोजन 599 14  
**नदशाब्दी**  
 योजना निर्माण 520 2  
**नदशो पा**  
 पदधिस्त 867 4  
**नदशो निगार**  
 उत्कीर्ण कृति 406 24  
 गुलकारी 577 15  
 बेलबूटा 578 13  
**नदशत्र**  
 ज्योतिष्क देवता 772 20  
 तारा 3 2  
 नक्षत्र 4 5 ⇨  
 पचाग अंग सूची 41 2  
 प्रारम्भ 260 1  
**नदशत्र (दे.)**  
 दक्ष मानस पुत्री 787 6  
**नदशत्र चक्र**  
 नक्षत्र चक्र 4.3 ⇨  
**नदशत्रज्ञ**  
 खगोल विज्ञानी 1 5  
**नदशत्र नाथ**  
 चंद्रमा 8 2  
**नदशत्र नेमि**  
 उत्तर ध्रुव तारा 3 12  
 चंद्रमा 8 2  
 विष्णु 768 1  
**नदशत्र पत्तन**  
 अंतरिक्ष पत्तन 1069 22  
**नदशत्र फल विचार**  
 फलित ज्योतिष 261 1  
**नदशत्र फल होना**  
 प्रारम्भाधीन होना 260 20  
**नदशत्र भोग**  
 ग्रहभोग 4 10  
**नदशत्र मार्ग**  
 आकाश गंगा 1 14  
**नदशत्र माली**  
 शिव 767 1  
**नदशत्र मिलना**  
 जन्मपत्री मिलना 799.51  
**नदशत्र युद्ध**  
 अंतरिक्ष युद्ध 905.14  
**नदशत्र योग**  
 नक्षत्र योग 261.33 ⇨  
**नदशत्र विज्ञान**  
 खगोल विज्ञान 1 4

**नक्षत्र वीथी**  
 नक्षत्र चक्र 4 3  
**नक्षत्र वेध**  
 खगोल वेध 1 6  
**नक्षत्र शाला**  
 तारागण 1 8  
**नक्षत्र शूल**  
 प्रतिकूल दिशायोग 262 14  
**नक्षत्र सूची**  
 नक्षत्र सूची 4 6 ⇨  
**नक्षत्राकाश**  
 खगोल 1 2  
**नक्षत्रामृत**  
 अनुकूल दिशायोग 262 13  
**नक्षत्री**  
 सौभाग्यशाली 260 33  
**नक्षत्रीय**  
 तारकीय 3 14  
**नक्षत्रीय इकाई**  
 अतरिक्षीय एकक 959 29  
**नक्षत्रीय दूरी माप**  
 अतरिक्षीय दूरी माप 959 28  
**नक्षत्रेश्वर**  
 चंद्रमा 8 2  
**नख**  
 नख 150 24 ⇨  
**नख**  
 बटा रेशम 568 14  
**नख**  
 बीस. उपमान सूची 948 56  
**नखक्षत**  
 वज्रित दृश्य सूची 463 28  
**नख धर्या**  
 नख रजन 225 28  
**नखः पार्श्व त्वचा**  
 नख पार्श्व त्वचा 150.25 ⇨  
**नख रंजन**  
 नख रंजन 225.28 ⇨  
**नखर**  
 नख 150.24  
 बघनखा 922 9  
**नखरा**  
 नाज़ नखरा 860 1  
 रूप अभिमान 860.6  
**नखरा तिल्ला**  
 नाज़ नखरा 860 1  
**नखरे उठाना**  
 अत्यधिक लाड़ करना 721 10  
**नखरे दिखाना**  
 नाज़ नखरा करना 860 12  
**नखरेबाज़**  
 नखरेबाज़ 860.18 ⇨  
**नखरे वाली**  
 रूप अभिमानिनी 860.22  
**नखरे सहना**  
 अत्यधिक लाड़ करना 721.10  
**नखलेखा**  
 नख रंजन 225.28

**नखशिख वर्णन**  
 नखशिख वर्णन 449 7 ⇨  
**नखाक**  
 बघनखा 922 9  
**नखानखी**  
 नखानखी 905.22 ⇨  
**नखायुध**  
 नर मुरगी 126 65  
**नखास**  
 पशु बाज़ार 663 17  
 बाज़ार 663 1  
**नखी**  
 कटकयुक्त 115.15  
 नखी 274 23 ⇨  
 बाघ 127 55  
 सिंह 127 50  
**नखिलस्तान**  
 मरुस्वर्ग 11 12  
**नग**  
 अदद 948 2  
 नगीना 228.51  
 पर्वत 16.3  
 मणि 96 15  
 रत्न 96 1  
 सर्प 123 10  
 सूर्य 8 1  
 स्थावर 1038 7  
**नगज**  
 हाथी 127.38  
**नगण (III)**  
 वार्षिक गण सूची 452.43  
**नगण्य**  
 नगण्य 853 10 ⇨  
**नगण्यता**  
 नगण्यता 853.3 ⇨  
**नगण्य व्यक्ति**  
 नगण्य व्यक्ति 853.4 ⇨  
**नगण्य समझना**  
 नगण्य समझना 853 7 ⇨  
**नगण्य होना**  
 नगण्य होना 853.6 ⇨  
**नगदी बिट्टी**  
 केश मीमो 632 26  
**नगपति**  
 चंद्रमा 8 2  
 शिव 767.1  
 सुमेरु 17 17  
**नगफीस**  
 नागपाश 928.6  
**नामा**  
 गीत 451.19  
 राग 457.13  
**नामाकार**  
 गीतकार 448 18  
**नामाकारी**  
 गायन 460.16  
**नगर**  
 नगर 620.10 ⇨

महल्ला 619 6  
**नगर अभियांत्रिकी**  
 नगर अभियांत्रिकी 599 11 ⇨  
**नगर कीर्तन**  
 जुलूस 1088 7  
 नगर कीर्तन 1088.8 ⇨  
**नगर कोतवाल**  
 नगर प्रशासक 891 7  
**नगर क्षेत्र**  
 नगर क्षेत्र 620.13 ⇨  
**नगर खंड**  
 नगर खंड 619.5 ⇨  
**नगर जन**  
 नागरिक 883 2  
**नगर देवता**  
 नगर देवता 772 28 ⇨  
**नगर निगम**  
 नगर निगम 892 8 ⇨  
**नगर निगम अध्यक्ष**  
 नगर निगम अध्यक्ष 892 9 ⇨  
**नगर निर्माण**  
 बस्ती निर्माण 599 5  
**नगर निर्माता**  
 बस्ती निर्माता 599 6  
 मय 783 20  
**नगर निर्वासित**  
 क्षेत्र निर्वासित 870 26  
**नगर निवासी**  
 नगर वासी 616 24  
**नगर परकोटा**  
 दुर्ग परकोटा 604 14  
**नगर परिक्षेत्र**  
 नगर परिक्षेत्र 620 14 ⇨  
**नगर परिखा**  
 परिखा 604 20  
**नगर पाल**  
 नगर प्रशासक 891 7  
**नगर पालिका**  
 नगर सभा 892.10  
**नगर पालिका भवन**  
 नगर भवन 695 5  
**नगर प्रदक्षिणा**  
 शोभा यात्रा 1088.11  
**नगर प्रशासक**  
 नगर प्रशासक 891.7 ⇨  
**नगर प्राधीर**  
 दुर्ग परकोटा 604.14  
**नगर बनाना**  
 बस्ती बसाना 599.36  
**नगर भवन**  
 नगर भवन 695.5 ⇨  
**नगर मार्ग**  
 शहरी सड़क 1063.37  
**नगर रक्षा**  
 पुलिस कर्म 866.2  
**नगर बधु**  
 शेरया 807.5



नगर वासिनी  
नगर वासिनी 616.25 ⇨  
नगर वासी  
नगर वासी 616.24 ⇨  
नगरवासी  
नगर वासी 616.24  
नगर वृक्ष  
शोभा वृक्ष 111.23  
नगर वृक्ष सूची  
नगर वृक्ष सूची 13.2 ⇨  
नगर संपादक  
संपादक सूची 445.16  
नगर सभा  
नगर सभा 892.10 ⇨  
नगर सभा अध्यक्ष  
नगर सभा अध्यक्ष 892.11 ⇨  
नगर समिति  
नगर सभा 892.10  
नगर सुरक्षा दल  
पुलिस 866.1  
नगर सेठ  
जगत सेठ 626.9  
नगरांचल  
नगर क्षेत्र 620.13  
नगराधिपति  
नगर प्रशासक 891.7  
नगराध्यक्ष  
नगर प्रशासक 891.7  
नगरी  
नगर 620.10  
महल्ला 619.6  
नगरीकरण  
संभ्यकरण 733.2  
नगरीय  
नगरीय 620.23 ⇨  
नागरतापूर्ण 733.16  
नगरीयता  
नागरता 733.5  
नगरोपांत  
उपनगर 620.11  
नगर परिक्षेत्र 620.14  
नगवासी  
नागपाश 928.6  
नगाडा  
नगाडा 461.58 ⇨  
बडा डोल 461.45  
मगल वाद्य सूची 796.12  
युद्ध डका 907.21  
नगाडा ध्वनि  
दमदम 296.11  
नगाका: लकड़ी  
डोल डगा 461.96  
नगाका वादक  
नगाडा वादक 461.59 ⇨  
नगाधिप  
हिमालय 17.7  
नगारि  
इंद्र 773.5

नगालैंड  
नगालैंड 28.44  
नगीना  
नगीना 228.51 ⇨  
नगेंद्र  
हिमालय 17.7  
नगेश  
सुमेरु 17.17  
हिमालय 17.7  
नगीका  
सिंह 127.50  
नगगर (मिन्न)  
बजरा 1072.21  
नगन  
अनावृत 822.29  
फिला [फिली] 542.18  
दिगंबर साधु 790.25  
नग्न 590.16 ⇨  
शिव 767.1  
सेना चारण 841.14  
नग्नक  
दिगंबर साधु 790.25  
नग्न साधु 790.19  
सेना चारण 841.14  
नग्नकरण  
नग्नकरण 590.2 ⇨  
नग्न क्षणक  
नग्न साधु 790.19  
नग्नता  
दिगंबर वेश 589.8  
नग्नता 590.1 ⇨  
नग्नतावाद  
नग्नतावाद 590.4 ⇨  
नग्नतावादी  
नग्नतावादी 590.5 ⇨  
नग्न धावन  
स्ट्रीकिंग 590.10  
नग्नयक्ष  
नग्नयक्ष 590.18 ⇨  
नग्नवाद  
नग्नतावाद 590.4  
नग्नवादी  
नग्नतावादी 590.5  
नग्न साधु  
नग्न साधु 790.19 ⇨  
नग्न स्त्री  
नग्न स्त्री 590.3 ⇨  
नग्न होना  
नग्न होना 590.13 ⇨  
नग्नना  
नग्न स्त्री 590.3  
नग्ननाट  
दिगंबर साधु 790.25  
नग्न साधु 790.19  
नग्ननाटक  
दिगंबर साधु 790.25  
नग्न साधु 790.19

ननिका  
नग्न स्त्री 590.3  
नग्निकरण  
नग्निकरण 590.2  
न घटना  
घटित न होना 75.9  
नचका  
घनका 392.11  
नचन  
नर्तन 462.12  
नृत्य 462.3  
नचना  
नर्तक 462.13  
नचनिया  
नर्तक 462.13  
नचनी  
नर्तकी 462.14  
नर्तकी वेश्या 807.7  
न चलना  
निश्चल रहना 1038.6  
प्रचलन न होना 515.6  
नचदीया  
नर्तक 462.13  
न चाहना  
इच्छा न करना 360.6  
नचिकेला  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
न चुकना  
समाप्त न होना 943.8  
न चुकने वाला  
असमाप्य 943.12  
न चुकना  
अयसर उपभोग करना 70.11  
नछत्री  
सीभाग्यशाली 260.33  
नजदीक  
निकट मे 31.9  
नजदीकन  
अदाजन 947.28  
नजदीक पहुँचना  
समकक्ष पहुँचना 1095.9  
नजदीकी  
घनिष्ठ 704.27  
निकटता 31.1  
निकटस्थ 31.7  
पड़ोस 31.3  
रिश्तेदार 715.6  
नजम  
नज्म 452.23  
नज़र  
उपहार 640.2  
दृष्टि 282.1  
नज़र 711.5 ⇨  
पर्यवेक्षण 284.21  
वार्षिक देय 634.10  
नज़र अंदाज़  
उपेक्षित 185.7

नज़र अंदाज़ करना  
अनदेखा करना 284.32  
नज़र अंदाज़ी  
अनवलोकन 284.2  
उपेक्षा 185.2  
नज़र उतराई  
नज़र उतराई 710.10 ⇨  
नज़र उतारना  
नज़र उतारना 710.18 ⇨  
नज़र उतारू  
नज़र उतारू 710.28 ⇨  
नज़र करना  
उपहार मे देना 640.11  
रिश्त देना 865.19  
नज़र क़ैद  
नज़रक़ैद 868.9  
नज़रक़ैद  
नज़रक़ैद 868.9 ⇨  
नज़र क़ैदी  
नज़र क़ैदी 868.41 ⇨  
नज़र. टीका  
नज़र टीका 710.11 ⇨  
नज़र डालना  
दृष्टिपात करना 284.42  
नज़रबंद  
नज़र क़ैदी 868.41  
नज़रबंदीकृत 474.40  
नज़रबंदी  
नज़रक़ैद 868.9  
नज़रबंदी 474.17 ⇨  
नज़रबंदी करना  
नज़र बाँधना 474.35  
नज़रबंदीकृत  
नज़रबंदीकृत 474.40 ⇨  
नज़रबंदू  
नज़र टीका 710.11  
नज़र बाँधना  
नज़र बाँधना 474.35 ⇨  
नज़र रखना  
लालसा करना 359.14  
नज़र लगना  
नज़र लगना 711.8 ⇨  
नज़र लगाने वाला  
नज़र लगाने वाला 711.13 ⇨  
नज़रसानी  
कला समीक्षा 398.3  
दृष्टिपात 284.15  
नज़रहाथा [नज़रहाथी]  
नज़र लगाने वाला 711.13  
नज़राना  
अग्रिम धन 634.8  
उपहार 640.2  
नज़राना  
रिश्त 865.9  
नज़रिया  
विचार कोण 330.2  
नज़रें चुराना  
नाज़ नज़र करना 860.12

## नजरें मिलना

### नजरें मिलना

प्रेम होना 368.12

### नजरें इनायत

दया दृष्टि 834.3

### नजरे करम

दया दृष्टि 834.3

### नजरी के सामने

समक्षतः 1021 11

### नज़ला

केश क्षय 137 15

पुकाम 163.16

नज़ला 163.17 ⇨

### नज़ालत

कोमलता 269.4

कोमलांगता 159 1

### नजात

रिहाई 869 1

### न जानना

ज्ञान न होना 306 10

### न जाना

निश्चल रहना 1038 6

### न जाने

अपूर्ण संभावना: उक्ति सूची 68.22

### नज़ारथ वाली

ईसा 791 8

### नज़ारा

मनोरंजक दृश्य 312.7

### नज़ीक

निकट में 31 9

### नज़ीर

उदाहरण 309 6

मुहम्मद 791.20

### नज़्म

फलित ज्योतिष 261.1

### नज़्मी

ज्योतिषी 261.2

### नज़ूल

सरकारी भूमि 553.6

### नज़्म

कविता 451 16

नज़्म 452.23 ⇨

पद्य 451.4

### नज़्मगो

नज़्मगो 448.24 ⇨

### नज़्म कैखक

नज़्मगो 448 24

### न झेलना

प्रहार न सहना 919.5

### नट

अभिनेता 464.5

अशोक 13.4

नट 473.10 ⇨

नट 1016.25 ⇨

नर्तक 462.13

बाज़ीगर 473.18

राग रागिनी सूची 457.24

सूत्रधार 468.13

### नट [नटनी]

कलाबाज़ 1086.15

### नट (औं)

नट 1016.25

### नटई

काकल 145.10

ग्रीवा 145.1

श्वास बाहिका 145 15

### नट कर्म

अभिनय 464.2

मंच नाटक 463 1

### नटखट

अत्यधिक लाड़ा 721 16

घंचल 860.24

चुहलबाज़ 385 14

नटखट 860.27 ⇨

### नटखट कृत्य

नटखट कृत्य 860 11 ⇨

### नटखट कृत्य करना

नटखट कृत्य करना 860.17 ⇨

### नटखट नंद किशोर

बालकृष्ण 771 4

### नटखटपन

अत्यधिक लाड़ापन 721 5

घचलता 860 8

नटखटपन 860 10 ⇨

### नटखटपना

विनोद प्रेम 385 2

### नटखटिया

घचल 860 24

### नटखटी

नटखटपन 860 10

### नट खेल

नट खेल 473.9 ⇨

### नटगरी

नट खेल 473 9

### नटगरीरी

नट खेल 473 9

### नटघर्या

अभिनय व्यवसाय 464.3

### नटन

अपराध अस्वीकृति 876 10

नर्तन 462.12

मुकरन 338.10

### नटना

अपराध स्वीकार न करना 876.25

मुकरना 338.25

### नट नारायण

षड्भाग सूची 457.22

### नटनी

अभिनेत्री 464.6

नटी 473 11

नर्तकी 462.14

### नटने वाला

मुकरने वाला 338.41

### नटबाज़ी

कलाबाज़ी 1086.14

### नट बोल्ट

नट बोल्ट 1016.23 ⇨

### नट बोल्ट (औं)

नट बोल्ट 1016.23

### नट मंडन

हरताल 92 13

### नट मंडली

नट मंडली 473 13 ⇨

### नटरंग

रंगमंच 471 14

### नट: रस्ती

नट रस्ती 473.14 ⇨

### नटराज

कुशल नट 473 12

कृष्ण 771 1

नटराज 746 11 ⇨

शिव 767 1

### न टलना

अवश्य होना 68.11

### नटवर

कुशल नट 473 12

कृष्ण 771 1

प्रवीण 303 22

मघ निर्देशक 468.11

सूत्रधार 468 13

### नटवर नागर

कृष्ण 771 1

### नटवेश

नाट्य वेश 464 38

### नटसार

नाट्यशाला 471 12

### नटसारी

नट खेल 473.9

### नटा [नटी]

मुकरा [मुकरी] 338 40

### नटित

मथित 468.34

### नटिनी

अभिनेत्री 464 6

नटी 473 11

### नटी

अभिनेत्री 464.6

नटी 473.11 ⇨

नर्तकी 462.14

नवकन्या सूची 774.20

सूत्रधार. पत्नी 468 14

### नटुआ

कठ मणि 145.6

### नटेश्वर

शिव 767 1

### नटशा

नट मंडली 473 13

### नडक

जौघ: अस्थि 133 18

### न डगमगाना

प्रतिरोध करना 915.4

### न डरना

साहस होना 394.10

### नत

अवनमित 1025.8

कोणयुक्त 970.12

वक्र 974 16

### नतता

अवनमितता 1025.4

### नतन

अवनमन 1025.3

### नतपाल

शरण दाता 910 13

### नतमस्तक

नतमस्तक 733.21 ⇨

### नतमस्तकता

नतमस्तकता 733.10 ⇨

### नतरीश

नतमस्तक 733 21

### नति

अवनमन 1025 3

कोण 970 1

नमन 1060 4

नम्यता 1050 16

विनम्रता 733 8

### नतिनी

धेवती 722 37

### नतीजा

उपपत्ति 328 1

परिणाम 510 1

परीक्षा फल 322 23

प्रतिफल 510 3

साराश 449 12

### नतीजे पर पहुँचना

उपपादित करना 328 7

### न तुम न वे

हम 316 21

### न तुम न हम

वे 316 15

### न तू न मैं

दह 316 14

### न तू न वह

मैं 316 20

### न तेरा न उरत का

मेरा [मेरी] 316 27

### नतोवर

नतोदर 989.9 ⇨

### नतोवरता

अवनमितता 1025.4

नतोदरता 989.1 ⇨

### नतोवर होना

नतोदर होना 989.6 ⇨

### नतोहू

नतोहू 724.25 ⇨

### नत्थी

अनुलनन 1010 21

टँका [टँकी] 577.30

नत्थी 417 12 ⇨

नत्थीकृत 417 15

नत्थी फ्राइल 417 2

पत्र अनुलग्नक 444.4

संग्रहित 573.15  
**नत्थीकरण**  
 नत्थीकरण 417.13 ⇨  
 सलनन 1010 1  
**नत्थी करना**  
 अनुलग्न करना 1010 15  
 नत्थी करना 417.14 ⇨  
**नत्थीकृत**  
 नत्थीकृत 417.15 ⇨  
**नत्थी फ्राइल**  
 नत्थी फ्राइल 417.2 ⇨  
**नत्थु**  
 नकछिदा [नकछिदी] 798.43  
**नथ**  
 नथ 228 15 ⇨  
**नथना**  
 नकछेदन होना 798 36  
 नासा पुट 142 6  
 वशाधीन होना 901 5  
**नथना: बीष की दीवार**  
 नासापटी 142 5  
**नथनिया**  
 छोटी नथ 228 16  
**नथनी**  
 छोटी नथ 228 16  
 नकेल 555 18  
**नथ: लटकन**  
 नथ लटकन 228 17 ⇨  
**नथा [नथी]**  
 अंतर्घटित 271 22  
 नकछिदा [नकछिदी] 798 43  
**नथाई**  
 नकछेदन 798 17  
**नथुना**  
 नासा पुट 142.6  
**नद**  
 नदी 20 1  
 बड़ी नदी 20 5  
**नवनु**  
 मेघ 55 1  
**नदपति**  
 समुद्र 24 1  
**नदर**  
 नदी तट 25 11  
 नदी तटवर्ती 25 31  
**नदारद**  
 अनुपस्थित 1022 7  
 नष्ट 531.7  
 रिक्त 1005 7  
 विलुप्त 824.24  
**नदिका**  
 सहायक नदी 20.3  
**न दिखाना**  
 रहस्य न खोलना 823.10  
**नदिया**  
 छोटी नदी 20.4  
 नदी 20.1  
 सहायक नदी 20.3

**नदी**  
 नदी 20 1 ⇨  
 नदी मार्ग 1086 6  
**नदी: अपवाह क्षेत्र**  
 जल क्षेत्र 21 7  
**नदी उद्गम**  
 उत्स्रोत 21.1  
**नदी: कगार**  
 नदी कगार 1000 9 ⇨  
**नदी कछार**  
 नदी कछार 25.27 ⇨  
**नदी ज्वारनदमुख**  
 नदी ज्वारनदमुख 21.23 ⇨  
**नदी: ज्वारनदमुख**  
 नदी ज्वारनदमुख 21 23  
**नदी: डेल्टा**  
 डेल्टा 21 24  
**नदी तट**  
 नदी तट 25 11 ⇨  
**नदी तट कर चौकी**  
 नदी तट कर चौकी 647.21 ⇨  
**नदी तटवर्ती**  
 नदी तटवर्ती 25 31 ⇨  
**नदी ताल**  
 तटवर्ती प्रवाहहीन जल 21 13  
**नदीवा [नदीदी]**  
 लालसी 359 29  
**नदीघर**  
 शिव 767 1  
**नदी नाला**  
 नाला नाली 23.6  
**नदीपति**  
 वरुण 773.43  
 समुद्र 24.1  
**नदी परित्यक्त भूमि**  
 नदी परित्यक्त भूमि 25.5 ⇨  
**नदी पाट**  
 नदी पाट 25.12 ⇨  
**नदी पारगमन स्थान**  
 गाघ स्थल 984.6  
**नदी पेटा**  
 नदी पेटा 25.13 ⇨  
**नदी प्रवाह**  
 जल प्रवाह 21 9  
**नदी: प्रशासन**  
 नदी प्रशासन 21.22  
**नदी प्रशासन**  
 नदी प्रशासन 21.22 ⇨  
**नदी मार्ग**  
 नदी मार्ग 1086.6 ⇨  
**नदी मुख**  
 डेल्टा 21.24  
**नदी: मुहाना**  
 डेल्टा 21.24  
**नदी मोड़**  
 नदी मोड़ 21.19 ⇨  
**नदीरथ**  
 जल प्रवाह 21.9

**नदी बंक**  
 नदी मोड़ 21 19  
**नदी विलय**  
 नदी विलय 21.25 ⇨  
**नदीश**  
 वरुण 773 43  
 समुद्र 24.1  
**नदी संगम**  
 नदी संगम 21.20 ⇨  
**न देखना**  
 न देखना 284 31 ⇨  
**न देना**  
 भुगतान न करना 639 11  
**नद**  
 आबद्ध 1013 22  
 जुता [जुती] 1079 21  
 नत्थीकृत 417 15  
 मैदा [मैदी] 592 19  
 संग्रहित 573 15  
 सन्नद्ध 491 16  
**नदहन**  
 नत्थीकरण 417.13  
**नदि**  
 यान जुताई 1079 1  
**नदुभी**  
 तौत 569.5  
**नदुत्सुष्ट**  
 नदी परित्यक्त भूमि 25 5  
**नधना**  
 आरभ होना 994.10  
 सन्नद्ध होना 491.8  
**नधा [नधी]**  
 जुता [जुती] 1079.21  
 सन्नद्ध 491 16  
**नधाई**  
 आरंभण 994 4  
 यान जुताई 1079.1  
**नधापन**  
 सन्नद्धता 491 4  
**ननद**  
 ननद 724.32  
**ननदा**  
 ननद 724 32  
**ननदु**  
 ननद 724 32  
**ननद**  
 ननद 724.32 ⇨  
**ननदी का भाई**  
 पति 803.5  
**नन्धोइया**  
 ननदोई 724.34  
**ननदोई**  
 ननदोई 724.34 ⇨  
**ननसार**  
 ननिहाल 801.6  
**ननीबा**  
 ननद 724.32

**ननिया सचुर**  
 नानसार 724.18  
**ननिया सास**  
 नानस 724.17  
**ननिहाल**  
 ननिहाल 601.6 ⇨  
 माता पक्ष 722 29  
**ननिहाल बाले**  
 माता पक्ष 722.29  
**नन्हा [नन्ही]**  
 लघु 980.20  
 लघुकाय 154.28  
 शिशु 230 3  
 सूक्ष्म 980.21  
**नन्हा साइज़**  
 बेबी साइज़ 961.9  
**न पसीजना**  
 दया न आना 835 5  
**न पहुँचना**  
 अनुपस्थित होना 1022 5  
**नषा [नधी]**  
 मापित 958.57  
**नषाई**  
 क्षेत्र मापन 599 17  
 मापन 958 2  
 रैखिक मापन 959.2  
**नषा सुला [नपी सुली]**  
 मात्रा में नियत 946 17  
 मापित 958.57  
**नपुंसक**  
 नपुंसक 238.18 ⇨  
**नपुंसक कन**  
 न्युट्रोन 78.15  
**नपुंसक करना**  
 क्षमता हरना 488.9  
**नपुंसकता**  
 नपुंसकता 238.4 ⇨  
**नपुंसक लिंग**  
 नपुंसक लिंग 425.49 ⇨  
**नपुंसकृत नर गाय**  
 बैल 127.13  
**नपुंसीकरण**  
 नपुंसीकरण 238.8 ⇨  
**नपुंसीकृत**  
 अक्षमकृत 488 17  
**नपुंसीय (म)**  
 न्युट्रोन 78 15  
**नपुंसीयक (म)**  
 न्युट्रोन 78.14  
**नपुंस्व**  
 नपुंसकता 238.4  
**नपुञ्जा**  
 मापने वाला 959 61  
 मापी 958.3  
**नपैना**  
 मानदंड 957.5  
 मापी 958.3  
 रैखिक मापी 959.3

## नपैया

नपैया  
मापन वाला 959 61  
नप्ता  
धेवता 722 36  
पोता 722 14  
नप्त्री  
धेवती 722 37  
नफ़र  
व्यक्ति 689 1  
नफ़रत  
घृणा 370 2  
नफ़रतअंग्रेज़  
घृणित 370 6  
नफ़री  
उपस्थिति गणना 1021 4  
नफ़ा  
लाभ 646 2  
नफ़ाख़ोरी  
मुनाफ़ाख़ोरी 865 16  
नफ़ा नुक्रान  
उन्नति अवनति 532 3  
लाभ हानि 646.1  
विमर्श 330 11  
नफ़ासत  
उत्तमता 313 1  
परिष्कृतता 537 3  
नफ़ीरी  
रोशन चौकी सूधी 461 20  
नफ़स  
इंद्रिय 268.1  
पुरुष जननेंद्रिय 152 10  
भोग लिप्सा 363 4  
व्यक्ति 689 1  
स्वार्थ 712 5  
नफ़सपरस्त  
विलासी 363.20  
नफ़सपरस्ती  
भोगवाद 760 21  
नफ़स परस्ती  
विलासप्रियता 363 7  
नफ़सानियत  
आसक्ति 365 1  
विलासप्रियता 363 7  
नफ़सी  
ऐंद्रिक 268 11  
न बचना  
प्रहार न बचना 919.6  
न बचाना  
निवारण न करना 919 7  
न बताना  
रहस्य न खोलना 823.10  
न बनाना  
रचना न करना 528 4  
नबकी  
पैगंबर विषयक 791 29  
न बताना  
निवासी न होना 617.8

न बींधना  
वेधन न करना 272.6  
नबी  
पैगंबर 791 1  
नबूवत  
ईश्वरीय सदेश वहन 443 7  
न बोलना  
मौन होना 429 14  
नबज़  
नबज़ स्पदन 1039 3  
नबज़ घुटना  
मरना 249 18  
नबज़ स्पदन  
नबज़ स्पदन 1039 3 ⇨  
नब्बे  
नब्बे 948.69 ⇨  
नभ  
आकाश 2 1  
मेघ 55 1  
वर्षा मेघ 55 5  
नभग  
उड्डयनशील 1030 32  
नभगज  
मेघ 55 1  
नभगामी  
नभ यात्री 1087 20  
पक्षी 126.1  
विद्याधर 779 15  
नभगेश  
गरुड़ 777 15  
नभघर  
उड्डयनशील 1030 32  
गधर्व 778 3  
नभघर जीव 121 8  
विद्याधर 779 15  
नभघर जीव  
नभघर जीव 121 8 ⇨  
नभघराः (प्र)  
नभघर जीव 121.8  
नभ दिशा  
उच्च दिशा 982.4  
नभद्वीप  
मेघ 55 1  
नभध्वज  
मेघ 55 1  
नभ मार्ग  
नभ मार्ग 1066 1 ⇨  
नभ मार्ग द्वारा प्रेषित  
नभ मार्ग द्वारा प्रेषित 1054.22 ⇨  
नभ यात्रा  
नभ यात्रा 1087.19 ⇨  
नभ यात्री  
नभ यात्री 1087.20 ⇨  
नभयान  
नभयान 1074.1 ⇨  
नभयान गति माप  
नभयान गति माप 958.33 ⇨

नभयान प्रस्थान करना  
नभयान प्रस्थान करना 1082.28 ⇨  
नभ युद्ध  
नभ युद्ध 905 13 ⇨  
नभशीर्ष  
खमध्य 2 5  
नभ स्रिता  
आकाश गंगा 1 14  
नभ सेना  
नभ सेना 932 17 ⇨  
नभ सैनिक  
नभ सैनिक 934.11 ⇨  
नभस्थल  
आकाश 2 1  
नभस्वान  
कुहरित 90 18  
नभांबुप  
घातक 126 39  
न भागना  
प्रतिरोध करना 915 4  
नभातीत यात्रा  
अतिरिक्त यात्रा 1087 23  
नभिकीय  
विमानकीय 1081 50  
न भूलना  
न भूलना 356 13 ⇨  
न भूलने वाला  
अविस्मरणशील 356 21  
क्षमाहीन 873 11  
न भोगना  
न भोगना 364.6 ⇨  
नभोगमन  
उड्डयन 1030 11  
नभोगामी  
नभ यात्री 1087.20  
नभोत्तरित 1081 51  
नभोत्तरण  
नभोत्तरण 1081 18 ⇨  
नभोत्तरित  
नभोत्तरित 1081.51 ⇨  
नभोत्तरित होना  
नभोत्तरित होना 1081.45 ⇨  
नभोमणि  
सूर्य 8 1  
नभौका  
देवता 772.1  
विद्याधर 779 15  
नभ्य  
अक्ष दंड 1077.12  
नभ्राट  
काला मेघ 55.3  
नभः  
अभिवादन 1060 1  
नभः नभो  
पूजा 751.1  
नभ  
अश्रुपूर्ण 387 7  
आर्द्र 88.27

नभक  
नभक 279.5 ⇨  
रूप लावण्य 157 5  
नभक अदा करना  
कृतज्ञता निभाना 833 6  
निष्ठा निभाना 826 8  
नभकदान  
नभकदानी 676 13  
नभकदानी  
नभकदानी 676 13 ⇨  
नभक पाड़ा  
नभक पाड़ा 200 27 ⇨  
नभक पारा  
नभक पाड़ा 200 27  
नभक भर  
पुट मात्र 1008 25  
नभक भिर्ष  
अतिशयोक्ति 434 4  
आहार मसाला 281.3  
नभक यात्रा  
डाडी कूच 904 7  
नभक सत्याग्रह  
नभक सत्याग्रह 904 13 ⇨  
नभक हराम  
कृतघ्न 833 11  
निष्ठाहीन 827 16  
विश्वासघाती 827 19  
नभक हरामी  
कृतघ्नता 833 4  
निष्ठाहीनता 827 1  
नभक हलाल  
निष्ठावान 826 9  
विश्वसनीय 340 13  
सत्तानिष्ठ 826 11  
नभक हलाली  
विश्वसनीयता 340 2  
सत्ता निष्ठा 826 4  
नभकीन  
घटपटा उपाहार 200 5  
नभकीन 279.10 ⇨  
लावण्ययुक्त 157.10  
नभकीनपन  
नभकीनपन 279.1 ⇨  
नभगीर  
शामियाना 600.17  
नभत  
ऊनी 568 16  
नभदा  
नभदा 593.54 ⇨  
नभन  
अवनमन 1025.3  
घरण स्पर्श 1080.2  
नभन 1060.4 ⇨  
नभस्कार 1060.12  
नमाज़ 751 10  
नमाज़ः सिजदा 751.17  
नभना  
अवनमित होना 1025.6

नमनीय  
नम्य 545 33  
न मरना  
न मरना 250 10 ⇨  
नमस्कार  
अजलिबद्धता 1060 11  
नमस्कार 1060 12 ⇨  
नमस्कार प्रणाम  
अभिवादन 1060 1  
नमस्ते  
नमस्कार 1060 12  
नमस्ते करना  
अभिवादन करना 1060 26  
नमस्थ्या  
नमाज़ 751 10  
नम होना  
ऑसू आना 387 4  
नमाज़  
नमाज़ 751 10 ⇨  
नमाज़: उपदेश  
नमाज़ उपदेश 751 12 ⇨  
नमाज़गुज़ार  
नमाज़गुज़ार 751 11 ⇨  
नमाज़: जलसा  
नमाज़ जलसा 751 14 ⇨  
नमाज़: तबर्रा  
नमाज़ तबर्रा 751 16 ⇨  
नमाज़ दरी  
नमाज़ दरी 593 52 ⇨  
नमाज़ नेता  
इमाम 744 16  
नमाज़: पंक्ति  
नमाज़ी पंक्ति 751 13  
नमाज़: बुलावा  
अज़ान 751 9  
नमाज़: बुजू  
नमाज़ बुजू 751.15 ⇨  
नमाज़: सिजदा  
नमाज़. सिजदा 751.17 ⇨  
नमाज़ी  
इमाम 744 16  
नमाज़गुज़ार 751 11  
नमाज़ी: पंक्ति  
नमाज़ी पंक्ति 751 13 ⇨  
नमाज़े जनाज़ा  
नमाज़े जनाज़ा 253.13 ⇨  
न मानना  
अपराध स्वीकार न करना 876.25  
अवज्ञा करना 348.4  
सपुष्टि न करना 338 22  
नमाभि  
नमस्कार 1060 12  
न मारना  
हत्या न करना 250 13  
न मालूम  
अपूर्ण सभावना: उक्ति सूची 68.22  
न भिटना  
नाश न होना 533.8

नमित  
अवनमित 1025 8  
कोणगुक्त 970 12  
दमित 911 14  
नमित होना  
अवनमित होना 1025 ०  
नमिनाथ्य  
तीर्थकर सूची 792 2  
न मिलना  
दुर्लभ होना 942 11  
प्रतिफल न मिलना 510 9  
प्राप्त न होना 639 15  
मिश्रित न होना 1008 24  
नमी  
आर्द्रता 88 16  
नमी उकाना  
शुष्क करना 89 6  
नमीदार  
आर्द्र 88 27  
नमीदार गरमी  
नमीदार गरमी 53 9 ⇨  
नमीदार गरमी होना  
नमीदार गरमी होना 53 13 ⇨  
नमुधि  
कामदेव 773 12  
दानव सूची 783 13  
दैत्य सूची 783 19  
न मुकना  
दिशा न बदलना 1098 17  
न मुरझाना  
म्लान न होना 119 9  
नमूदार  
सहसा आगत 1093 15  
नमूदार होना  
सहसा आना 1093 8  
नमूदारी  
सहसा आगमन 1093 3  
नमूना  
कपड़ा बुनावट 576 11  
डिज़ाइन 404 14  
नमूना 520 13 ⇨  
प्रथम प्रयोग 994.6  
प्रारूप 520 8  
मानदंड 957 5  
नमूना खरीद  
जाकर खरीद 660 8  
नमूने के तौर पर  
उदाहरणतः 309 25  
न मेरा न उस का  
तुम्हारा [तुम्हारी] 316 24  
तेरा [तेरी] 316.25  
नमोगुरु  
धर्म शिक्षक 742.21  
नमोनमः  
नमस्कार 1060.12  
नम्दा  
नमदा 593 54

नम्य  
दम्य 518 23  
नम्य 545.33 ⇨  
नम्य 1050 32 ⇨  
सम्मान्य 854 20  
नम्यता  
नम्यता 1050 16 ⇨  
नम्यता 545 18 ⇨  
नम्र  
दम्य 518 23  
नम्र व्यवहारी 830 8  
विनम्र 733 19  
नम्रतः  
विनम्रतः 733 23  
नम्रता  
नतमस्तकता 733 10  
नम्र व्यवहार 830 3  
विनम्रता 733 8  
नम्र व्यवहार  
नम्र व्यवहार 830 3 ⇨  
नम्र व्यवहारी  
नम्र व्यवहारी 830 8 ⇨  
नय  
उपाय 517 3  
कार्य नीति 517 6  
नम्र व्यवहार 830 3  
नैचा 213 12  
राजनीति 884 1  
विनम्रता 733 8  
नय कोविद  
नैतिकता ज्ञानी 815 6  
नय क्रम  
प्रथाक्रम 991 11  
नयज्ञ  
नैतिकत. ज्ञानी 815 6  
नयन  
आनयन 1053 1  
नेत्र 141 1  
पहुँचाई 1053.5  
वहन 1061 1  
संचालन 655 1  
नयन कमल  
सुंदर नयन 158 4  
नयन जल  
अश्रु 387.1  
नयन पट  
पलक 141.13  
नयन बारि  
अश्रु 387 1  
नयनहीन  
अंधा [अधी] 164 8  
नयना  
अवनमित होना 1025 6  
नेत्र 141 1  
सुनयना 158 15  
नयनाध्यक्ष  
शिव 767.1

नयनाभिराम  
सुंदर 157 7  
नयनारविंद  
सुंदर नयन 158 4  
नय पीठी  
शतरज बिसात 479 35  
नयशील  
विनम्र 733 19  
नया [नई]  
अनुपभुक्त 525 6  
अप्राचीन 64 9  
अभुक्त 364 9  
अभूतपूर्व 312 18  
आधुनिक 64 7  
आधुनिकतावादी 344 6  
आविष्कृत 307 17  
उदीयमान 5 29  
ताज़ा [ताज़ी] 197 43  
नव परिचित 704 22  
नव रचित 527 17  
नववत 532 22  
नवीन 64 10  
नौसिखिया 304 10  
परिवर्तित 532 16  
फ़ैशानानुकूल 222 18  
मौलिक 397 36  
वर्तमान कालीन 36 21  
स्थानापन्न 653 38  
नया करना  
नवीकरण करना 532 15  
प्रयोग करना 307 10  
नया ज़माना  
आधुनिक काल 76 9  
नया जीवन देना  
पुनरुज्जीवित करना 250 15  
नया नकोर [नई नकोर]  
नवीनतम 64 11  
नया नकोरा [नई नकोरी]  
नवीनतम 64 11  
नया नया [नई नई]  
नवीनतम 64.11  
नया नवेली [नई नवेली]  
नवीनतम 64 11  
नयापन  
अभुक्तता 364.2  
अभूतपूर्वता 312 5  
आधुनिकता 64.1  
नववत्ता 532 11  
नवीनता 64 3  
नौसिखियापन 304.5  
नया परस्पर संबंध  
संपर्क 703.5  
नया प्रयोग  
अनुसंधान 307.4  
नया फ़ैशन  
नया फ़ैशन 222.12 ⇨  
नया बसाना  
नव आवासित करना 618.18

## नया भरती सैनिक

नया भरती सैनिक  
नया भरती सैनिक 934.4 ⇨  
नया भोज लेना  
दिशा बदलना 1098 18  
नया रूप लेना  
परिवर्तन होना 532 13  
नया विचार  
नई कल्पना 308 2  
नया शरीर लेना  
पुनर्जन्म होना 248 9  
नया साल  
नव वर्ष 42.18  
नीरोज़ 57.60  
वर्ष आरम्भ 42 17  
नया होना  
अभूतपूर्व होना 312.13  
नव्या  
नौका 1072 2  
नर  
अर्जुन 771 36  
नर 236.21 ⇨  
नर (नारायण) 764.18  
पुरुष 236.12  
विष्णु 768 1  
नर (नारायण)  
नर (नारायण) 764.18 ⇨  
नरई  
पोला डंठल 114.3  
नरक  
असुर सूची 783 8  
दुःख धाम 391 3  
नरक 259.6 ⇨  
निर्धनता 627.5  
नरक कुंड  
दुःख धाम 391.3  
नरक चतुर्वर्ती  
दीवाली उत्सव समूह सूची 57 16  
नरकः देवी  
निम्नति 774.51  
नरक निवास  
नरक निवास 259.9 ⇨  
नरक निवासी  
नरक निवासी 259.13 ⇨  
नरकवास  
नरक निवास 259.9  
नरकवासी  
नरक निवासी 259.13  
नरक सूची  
नरक सूची 259 7 ⇨  
नरकामय  
भूत 786.1  
नरकीय  
नारकीय 259.12  
नरकुल  
पंच डंडी 151.9  
बाण 926.16  
नर केसरी  
नृसिंह अवतार 769.20

नर कोशा  
शुक्राणु 130 11  
नरगिस  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
नरगिस 14 19 ⇨  
नरगिणी विकार (प्र)  
आत्ममोह 353.17  
नरता  
पुंसकता 238.2  
नर बारा  
हिजड़ा 238 5  
नरदेव  
नर (नारायण) 764 18  
नर नारायण  
कृष्ण अर्जुन 771 52  
नर नारायण 764.17 ⇨  
राग रागिनी सूची 457 24  
विष्णु चौबीस अवतार सूची 769 9  
नर नारायणः अवतार  
कृष्ण अर्जुन 771 52  
नरनारी  
द्रोपदी 771.64  
नर नारी  
स्त्री पुरुष 236.1  
नरनारीवपु  
अर्धनारीश्वर 767 27  
नर नाहर  
नृसिंह अवतार 769 20  
वीर पुरुष 396 2  
नर पशु  
अधम पुरुष 840 3  
नर पिशाच  
अधम पुरुष 840 3  
नर गुणव  
महापुरुष 839 3  
नर बकरी  
नर बकरी 127.23 ⇨  
नर बलि  
नर बलि 754.7 ⇨  
नर बिल्ली  
नर बिल्ली 127.57 ⇨  
नरबीज  
वीर्य 130 10  
नरभक्षी  
असुर दानव दैत्य राक्षस 783 2  
मनुष्य भक्षी 205 7  
नर भेड़  
नर भेड़ 127.25 ⇨  
नर भैंस  
नर भैंस 127.20 ⇨  
नरभ  
अप्रबल 488 14  
कोमल 269.18  
नम्र व्यवहारी 830.8  
मुलायम 197 39  
विनम्र 733.19  
नरमाई  
अप्रबलता 488 3

कोमलता 269 4  
नम्र व्यवहार 830.3  
नर मादा  
नर मादा 236.20 ⇨  
विपरीतता. उपमान सूची 310 13  
नर मादा (दे.)  
स्त्री पुरुष 236.1  
नरमाना  
कोमल होना 269 10  
क्रोध मिटना 372 7  
प्रबल न रहना 488 7  
नरमी  
कोमलता 269 4  
विनम्रता 733 8  
नरमुंड  
नरमुंड 140 2 ⇨  
नरमुंड माला  
मुडमाला 228.37  
नर मुरगी  
नर मुरगी 126 65 ⇨  
नरमेध  
नर बलि 754 7  
नरमेध यज्ञ  
यज्ञ सूची 753 2  
नरयंत्र  
धूपघड़ी 50.19  
नर लोक  
इहलोक 268.11  
नरवध  
मानव घात 251 10  
नरवर  
महापुरुष 839 3  
नरबाहन  
कुबेर 779 4  
नरवीर  
योद्धा 934 15  
वीर पुरुष 396.2  
नर वृषभ  
महापुरुष 839 3  
नर व्याघ्र  
महापुरुष 839 3  
वीर पुरुष 396 2  
नर शार्दूल  
महापुरुष 839 3  
वीर पुरुष 396.2  
नर संहार  
मारकाट 905 25  
नरसिंगा  
नरसिंघा 461.60  
नरसिंघा  
नरसिंघा 461.60  
नरसिंघा  
नरसिंघा 461.60 ⇨  
नरसिंह  
नृसिंह अवतार 769 20  
विष्णु 768 1  
नरसिंहा  
तुरही 461.55

नरसिंहा  
नरसिंघा 461.60  
नरसों  
परसों 46 15  
नर स्रोम  
वाई क्रोमोसोम 130.4  
नर हत्या  
मानव घात 251.10  
न रहना  
नष्ट होना 531.4  
निवासी न होना 617.8  
मरना 249 18  
नरहरि  
नृसिंह अवतार 769 20  
नराधम  
अधम पुरुष 840 3  
पापी 812 12  
नराधिप  
राजा 882 6  
नरायण  
नारायण (नर) 764 19  
विष्णु 768 1  
नरियरी  
कमंडलु 642 13  
नारियल बरतन 680 5  
नरियल  
नारियल 13 11  
नरिया  
ऊपरती खपरैल 599 33  
नरिष्यंत वंशज  
शक जाति 732 11  
नरी  
सुनार फुंकनी 85.24  
नरीय  
मानवीय 128 11  
नरुआ  
पोला डंठल 114 3  
न रुकना  
विराम न होना 1049.6  
नरेंद्र  
राजा 882 6  
नरेश  
राजा 882.6  
नरेश्वर  
राजा 882.6  
न रोकना  
अवरोध न करना 1049.8  
निवारण न करना 919 7  
नरोत्तम  
महापुरुष 839.3  
विष्णु 768.1  
नरोम (प्र)  
वाई क्रोमोसोम 130.4  
नर्त  
नर्तक 462.13  
नृत्य 462.3  
नर्तक  
नट 473.10

नर्तक 462.13 ⇨  
 मोर 126.68  
 शिव 767.1  
 नर्तक मंडली  
 नृत्य मंडली 462.15  
 नर्तकी  
 देवदासी 744.9  
 नटी 473.11  
 नर्तकी 462.14 ⇨  
 नर्तकी वेश्या 807.7  
 मादा मोर 126.69  
 नर्तकी घाघरा  
 नर्तकी घाघरा 586.11 ⇨  
 नर्तकी वेश्या  
 नर्तकी वेश्या 807.7 ⇨  
 नर्तन  
 धुरी चक्रण 1033.1  
 नर्तक 462.13  
 नर्तन 462.12 ⇨  
 नर्तन कर्म  
 नर्तन 462.12  
 नर्तन शाला  
 नृत्य शाला 471.8  
 नर्तयिता  
 नर्तक 462.13  
 नर्तित  
 चक्रित 1033.17  
 नर्तिनी  
 मादा मोर 126.69  
 नर्तु  
 नर्तकी 462.14  
 नर्दी  
 घोर ध्वनिक 294.28  
 नर्बदा  
 नर्मदा 20.16  
 नर्म  
 खस्ता 197.30  
 गदेदार 593.67  
 नम्य 1050.32  
 नम्र व्यग्रहारी 830.8  
 मदा [मंदी] 664.33  
 विनम्र 733.19  
 हास 384.1  
 नर्मट  
 खप्पर 683.9  
 नर्मद  
 नर्म सधिव 467.17  
 नर्मद [नर्मदा]  
 आनंदप्रद 382.18  
 विनोदी 385.13  
 नर्मदा  
 नर्मदा 20.16 ⇨  
 भारत उपमहाद्वीप नदी सूची 207  
 नर्मदा: बटी  
 नर्मदेश्वर बटी 938.46  
 नर्मदिली  
 कोमल हृदयता 834.6

नर्मदेश्वर  
 शिवलिंग सूची 746.17  
 नर्मदेश्वर बटी  
 नर्मदेश्वर बटी 938.46 ⇨  
 नर्म पकना  
 प्रशमित होना 372.6  
 नर्म सखा  
 नर्म सधिव 467.17  
 नर्म सधिव  
 नर्म सधिव 467.17 ⇨  
 नर्मी  
 अप्रबलता 488.3  
 नम्र व्यवहार 830.3  
 नर्व (अँ)  
 घेता 131.14  
 नर्वस ब्रेकडाउन (अँ)  
 हिम्मत परती 169.7  
 नर्स  
 नर्स 175.7 ⇨  
 नर्स (अँ)  
 नर्स 175.7  
 नर्स मेड (अँ)  
 उपचारिका 720.3  
 नर्सरी (अँ)  
 पीद क्यारी 551.18  
 शिक्षालय सूची 321.11  
 शिशु कक्ष 614.22  
 नर्सलिंग (अँ)  
 पीद 113.5  
 नर्सिंग होम  
 नर्सिंग होम 175.3 ⇨  
 नर्सिंग होम (अँ)  
 नर्सिंग होम 175.3  
 नल  
 नल 781.11 ⇨  
 नली 19.29  
 पानी नल 19.27  
 बानर सूची 781.7  
 नलक  
 नलाकार अस्थि 133.3  
 नलकी  
 परछा 562.14  
 नलकूप  
 ट्यूब वेल 19.15  
 नल कुबार  
 यक्ष सूची 779.3  
 न लगना  
 प्रवृत्त न होना 503.7  
 नल: टॉटी  
 नल. टॉटी 19.28 ⇨  
 नल मीन  
 झींगा 124.17  
 नलवा  
 नलवा 684.3 ⇨  
 बॉस. पोला भाग 597.9  
 नलसेतु  
 राम: पुल 1065.13

नलाकार अस्थि  
 नलाकार अस्थि 133.3 ⇨  
 नलिन  
 कमल 14.4  
 कुमुद 14.9  
 नलिसी  
 कमल सरोवर 18.3  
 कमलिनी 14.8  
 नदी 20.1  
 नारियल 13.11  
 नली  
 नलाकार अस्थि 133.3  
 नली 19.29 ⇨  
 नली 584.4 ⇨  
 नैचा 213.12  
 परछा 562.14  
 पाइप 597.22  
 फूंकनी 85.23  
 वाहिका 131.10  
 सौचा सूची 565.20  
 नलीमुख  
 नोजल 19.30  
 न लेना  
 न लेना 639.13 ⇨  
 न लेना न देना  
 अपरस्परता 697.7  
 नल्ला  
 नाला 23.8  
 नर्वबर  
 ईसवी मास सूची 43.4  
 नव  
 नवीन 64.10  
 नौ 948.33  
 नौयों [नौयों] 948.95  
 नौ सनुदाय 687.11  
 नव आवासन  
 नव आवासन 618.2 ⇨  
 नव आवासित करना  
 नव आवासित करना 618.18 ⇨  
 नवक  
 नौ: रूपदण्ड 687.11  
 नवकन्या  
 नवकन्या 774.19 ⇨  
 नवकन्या सूची  
 नवकन्या सूची 774.20 ⇨  
 नव कल्पना  
 आविष्कार 307.5  
 नव कालिका  
 नव धनु 801.12  
 नवकुमारी  
 नवकुमारी 774.28 ⇨  
 नवकुमारी सूची  
 नवकुमारी सूची 774.29 ⇨  
 नवग्रह  
 नवग्रह 261.13 ⇨  
 नवग्रह सूची  
 नवग्रह सूची 261.14 ⇨

नवग्रही  
 नवरत्न माला 228.35  
 नवचंद्राकार  
 नवचंद्राकार 974.21 ⇨  
 नवचंद्राकारता  
 नवचंद्राकारता 974.7 ⇨  
 नवजातक  
 नवजात शिशु 230.4  
 नवजात शिशु  
 नवजात शिशु 230.4 ⇨  
 नवतः  
 नवतः 532.24 ⇨  
 नवता  
 आधुनिकता 64.1  
 नवीनता 64.3  
 नवतारा  
 नोवा 3.3  
 नवति  
 नबे 948.69  
 नवतिका  
 नबे 948.69  
 नवत्र (ग्र)  
 नोवा 3.3  
 नवदुर्गा  
 पार्वती 776.9  
 नवद्वार  
 शरीर नौ रंग 138.2  
 नव धनाढ्य  
 नव धनाढ्य 626.16 ⇨  
 नवधनी  
 नव धनाढ्य 626.16  
 नवधा भक्ति  
 नवधा भक्ति 752.5 ⇨  
 नवधा भक्ति सूची  
 नवधा भक्ति सूची 752.6 ⇨  
 नवन  
 नौ 948.33  
 नवना  
 अवनमित होना 1025.6  
 नवनिधि  
 कुबेर नवनिधि 779.11  
 नव निर्मित  
 आविष्कृत 307.17  
 नव रचित 527.17  
 पुनर्रचित 527.18  
 नवनीत  
 चंद्रमा 8.2  
 मक्खन 196.6  
 नवनीतक  
 धी 186.7  
 नवनीतप्रिय  
 अष्ट कृष्ण सूची 771.3  
 नव परिचय  
 नव परिचितता 704.8  
 नव परिचित  
 नव परिचित 704.22 ⇨  
 नव परिचितता  
 नव परिचितता 704.8 ⇨

## नव पल्लव

### नव पल्लव

नव पल्लव 115.2 ⇨

### नव प्रयोग

नव प्रयोग 307.6 ⇨

### नव प्रयोग करना

प्रयोग करना 307 10

### नव प्रवर्तक

आविष्कर्ता 307 18

### नव प्रवर्तित

आविष्कृत 307 17

### नव प्रशिक्षित

भौसिखिया 304 10

### नवभक्ति

नवधा भक्ति 752 5

### नवम

नीर्वो [नीवी] 948 95

### नव मल्लिका

कामदेव पुष्प बाण सूची 773 19

बेला 14 20

### नवमी

नवमी 4.15 ⇨

### नवयुवक

नवयुवक 231 2 ⇨

### नवयुवती

नवयुवती 231 3 ⇨

### नवयुवा

नवयुवक 231 2

### नवयुवा अवस्था

नवयीवन 231 1

### नवयीवन

नवयीवन 231 1 ⇨

### नवयीवना

नवयुवती 231 3

मुग्धा नायिका 456.8

### नवशंभ

शरीर नी शंभ 138 2

### नव रचित

नव रचित 527.17 ⇨

### नवरत्न

नवरत्न 96.6 ⇨

### नवरत्न माला

नवरत्न माला 228 35 ⇨

### नवरत्न सूची

नवरत्न सूची 96 7 ⇨

### नवरत्न

नवरत्न 455.10 ⇨

### नवरत्न सूची

नवरत्न सूची 455.11 ⇨

### नवरत्न

दशहरा उत्सव समूह सूची 57.10

नवरत्न 57.11 ⇨

### नवरत्न (दे.)

दुर्गा पूजा 57 14

### नवरत्न पूज्य कुमारियो

नवकुमारी 774.28

### नवरत्न

नवरत्न 57 11

### नवरोज

नीरोज 57.60

### नव रोम

नई कोमल दाढ़ी 136 4

नव रोम 135 2 ⇨

### नवल

अभुक्त 364 9

अभूतपूर्व 312 18

नव रचित 527 17

नवीन 64 10

रसिक 837 18

### नवल अनंगा

मुग्धा नायिका 456 8

### नवल किशोर

कृष्ण 771 1

### नवलता

अभूतपूर्वता 312 5

नवीनता 64 3

### नवल वधु

नव वधु 801 12

### नववत

नववत 532.22 ⇨

### नववतः

नवत 532.24

### नववत्ता

नववत्ता 532.11 ⇨

### नव वधु

नव वधु 801.12 ⇨

### नव वधु: दासी

नव वधु दासी 801 13 ⇨

### नव वधु

नव वधु 801 12

### नव वर्ष

नव वर्ष 42 18 ⇨

नीरोज 57 60

वर्ष आरम्भ 42 17

### नव वर्ष सूची

नव वर्ष सूची 42 19 ⇨

### नववादी

आधुनिकतावादी 344 6

### नव विवाहिता

नव वधु 801 12

### नव विवाहिता: सहगामिनी

नव वधु: दासी 801.13

### नवशक्ति

नवशक्ति 776.18 ⇨

### नव शक्ति पूजन

दुर्गा पूजा 57 14

### नवशक्ति सूची

नवशक्ति सूची 776.19 ⇨

### नवसप्त

सोलह 948 49

### नव सृष्टि

रचना कर्म 527.1

### नवह

नूह 791 15

### नवी [नवी]

नीर्वो [नीवी] 948 95

### नवांकुर

अंकुर 113 1

### नवांगतुक

आगतुक 1093 12

### नवागत

आगतुक 1093 12

नया भरती सैनिक 934 4

नव परिचित 704 22

### नवाज्ञ

सहायता दाता 700 25

### नवाजना

दया करना 834 8

पुरस्कार देना 857 22

### नवाजना

सम्मान करना 854 16

### नवाजिना

दया 834 1

### नवाङ्का

शिकारा 1072 23

### नवानुसरण

नव प्रयोग 307 6

### नवाभ्र

नवाभ्र फसल 547 2

### नवाभ्र फसल

नवाभ्र फसल 547 2 ⇨

### नवाब

प्रातः प्रशासक 882 31

### नवाब [बेगम]

राजा [रानी] पलाम (पलाम) सूची 882 10

### नवाबज़ादा

बङ्का आदमी पुत्र 718 9

राजकुमार 882 20

### नवाबज़ादा [नवाबज़ादी]

राजा [रानी] पलाम (पलाम) सूची 882 10

### नवाबज़ादी

राजकुमारी 882 21

### नवाब बेगम

राजा रानी 882 5

### नवाबी

राज वैभवशाली 226.17

राजा पद 882.8

### नवाबा

शिकारा 1072 23

### नवाबि

मंगल ग्रह 7 7

### नवाबिष्कृत

आविष्कृत 307 17

### नवासा

धेवता 722.36

### न विचलना

विचलित न होना 500.8

### नवीकरण

कायाकल्प 172.16

जीर्णोद्धार 598.11

नवीकरण 64.6 ⇨

नवीकरण 532 12 ⇨

### नवीकरण करना

नवीकरण करना 532 15 ⇨

### नवीकृत

जीर्णोद्भूत 598 14

नवीकृत 64 13 ⇨

नवीकृत 532.23 ⇨

### नवीकृतता

नववत्ता 532 11

### नवी दौलत वाला

नव धनाढ्य 626 16

### नवीन

नवीकृत 532 23

नवीन 64 10 ⇨

मौलिक 397 36

### नवीनतम

आधुनिकतम 64 8

नवीनतम 64 11 ⇨

फैशानुकूल 222 18

### नवीनतम चलन

फैशन 222 11

### नवीनतमता

नवीनतमता 64 4 ⇨

### नवीनता

अभूतपूर्वता 312 5

नववत्ता 532 11

नवीनता 64 3 ⇨

### नवीनता प्रेमी

फैशनप्रिय 222 19

### नवीनतावादी

आधुनिकतावादी 344 6

### नवीनीकरण

नवीकरण 64.6

नवीकरण 532.12

### नवीनीकृत

नवीकृत 532.23

नवीकृत 64 13

### नवीयन

नवीकरण 64.6

### नवीस

लिपिक 412 4

### नवेद

निमंत्रण 1056.1

निमंत्रण पत्र 1056 2

### नवेधु

नव वधु 801.12

### नवेला

नवयुवक 231 2

### नवेला [नवेली]

अभूतपूर्व 312 18

नवीन 64 10

### नवेली

गौनहाई 799.66

नवयुवती 231 3

नव वधु 801 12

### नवेयत

भूमि धारण अवधि और शर्त 553.9

### नवोङ्का

नवयुवती 231 3

### नवोङ्का

नव वधु 801.12



**नवोक्ताः स्तन**  
**नवोक्ता स्तन** 146.8 ⇨  
**नवोत्तर संख्या**  
**नवोत्तर संख्या** 948.37 ⇨  
**नवोदय**  
 उदय 5 7  
 सूर्योदय 5 8  
**नवोदित**  
 उदित 5 28  
**नवोद्भव**  
 उत्पत्तिवर्तन 534 6  
**नवोन्मेष**  
 सूर्योदय 5 8  
**नवोन्मेषित**  
 आविष्कृत 307 17  
**नव्य**  
 आधुनिक 64 7  
 नव रचित 527 17  
 नवीन 64 10  
**नशाना**  
 नष्ट होना 531 4  
**नशा**  
 आवेश 371 1  
 खन्त 353 11  
 दर्प 858 5  
 प्रेमासक्ति 368 8  
 भोग 210 1  
 मद 211 1  
 मद सेवन 211 6  
**नशा आना**  
 मद प्रभाव होना 211 9  
**नशा उरुना**  
 मद उतरना 211 11  
**नशा उत्तरना**  
 मद उतरना 211 11  
**नशा काफूर होना**  
 मद उतरना 211 11  
**नशास्त्रोर**  
 मद सेवी 211 13  
**नशास्त्रोरी**  
 मद सेवन 211 6  
**नशा गौठना**  
 मद सेवन करना 211 8  
**नशा गायब होना**  
 मद उतरना 211 11  
**नशा झरना**  
 मद उतरना 211 11  
**नशापत्ती**  
 भोग 210 1  
**नशापानी**  
 मद सेवन 211 6  
 मद्यपान 209.21  
**नशापानी करना**  
 मद सेवन करना 211 8  
**नशाबंदी**  
 मद्य निषेध 209.28  
**नशा हिरन होना**  
 मद उतरना 211 11

**नशा होना**  
 मद प्रभाव होना 211 9  
 प्रदोन्मत्त होना 211 10  
**नशीन**  
 आसीन 1028 10  
**नशीनी**  
 आसन ग्रहण 1028 1  
**नशीनी**  
 आसीनता 1028 3  
**नशीला [नशीली]**  
 मादक 211 12  
**नशीलापन**  
 मादकता 211 5  
**नशीले पदार्थ**  
 मदय्य 212 1  
**नशोकी**  
 मद सेवी 211 13  
 मद्यासक्त 209 44  
**नशोकीपन**  
 मद्यपता 209 26  
**नशोदार**  
 मादक 211 12  
**नशोबाज**  
 मद सेवी 211 13  
 मद्यासक्त 209 44  
**नशोबाजी**  
 मद सेवन 211 6  
**नशतर**  
 घाकू 561.6  
 नशतर 174 20 ⇨  
**नश्वर**  
 नश्वर 38 7 ⇨  
 परिवर्तनशील 532 17  
**नश्वर (दे.)**  
 आवागमन ग्रस्त 246 12  
 भजनशील 539 14  
**नश्वरता**  
 नश्वरता 38 2 ⇨  
**नश्वरता (दे.)**  
 अल्पायुता 229.5  
 परिवर्तनशीलता 532 2  
**नष्ट**  
 ढहा [ढही] 539 17  
 नष्ट 531 7 ⇨  
**नष्ट करना**  
 नष्ट करना 531 5 ⇨  
**नष्ट कर्ता**  
 नाशक 531 8  
**नष्टकुल**  
 वंशानष्ट 727 42  
**नष्टवैतन**  
 मूर्च्छित 264 23  
**नष्टघट्ट**  
 मूर्च्छित 264 23  
**नष्टघट्टता**  
 मूर्च्छा 264 5  
**नष्टधी**  
 भ्रष्टधी 302.10

**नष्ट न होना**  
 नाश न होना 533 8  
**नष्टपाप**  
 पापनष्ट 813 10  
**नष्टप्रभ**  
 आलोकहृत 286 15  
**नष्टबीज**  
 अफलित 118 17  
**नष्टवंश**  
 वंशानष्ट 727 42  
**नष्टशक्ति**  
 शक्तिनष्ट 488 12  
**नष्टसंज्ञ**  
 घेतनाहृत 264 21  
**नष्टस्मृति**  
 स्मृतिनष्ट 357 10  
**नष्ट होना**  
 नष्ट होना 531 4 ⇨  
**नष्टा**  
 व्यभिचारिणी 806 11  
**नष्टात्मा**  
 अधम पुरुष 840 3  
 दुर्जन 818 5  
**नष्टदुकला**  
 प्रतिपदा 44 7  
**नस**  
 वेता 131.14  
 वाहिका 131 10  
 शिरा 131 12  
 स्नायु 131 13  
**नसतालीक**  
 उर्दू लिपि शैली सूची 409 6  
 सुलेख उपमान सूची 412 11  
**नसबंदी**  
 नसबंदी 240 5 ⇨  
**नसथार**  
 नसवार 213 5 ⇨  
**न सहना**  
 प्रहार न सहना 919 5  
 सहन न करना 873 9  
**नसीब**  
 प्रारब्ध 260 1  
 भाग्य 260 14  
**नसीब बाला**  
 सीभाग्यशाली 260 33  
**नसीबा**  
 प्रारब्ध 260 1  
 भाग्य 260.14  
**नसीम**  
 बयार 85 14  
**नसीहत**  
 इसलामी धर्मापदेश 742 6  
 परामर्श 332.1  
 शिक्षा 321 1  
 सीख 332.6  
**न सुनना**  
 अवज्ञा करना 348 4  
 न सुनना 293.8 ⇨

**न सुनाना**  
 असह्य होना 873 10  
**नसेकी**  
 मद सेवी 211 13  
 मद्यासक्त 209 44  
**नसेकीपन**  
 मद्यपता 209 26  
**नसेनी**  
 सीकी 613 6  
**न सोधना**  
 विचार न करना 330 14  
**न सोना**  
 आतुर प्रतीक्षा करना 1057 6  
**नस्तक**  
 नासापटी 142 5  
**नस्तालीक**  
 उर्दू हस्तलेख शैली सूची 412.8  
**नस्य**  
 नसवार 213 5  
**नस्या**  
 नकेल 555 18  
**नस्य**  
 गद्य 451 2  
**नस्यनिगार**  
 गद्यकार 448 8  
**नस्यनियत**  
 ईसाई धर्म 736 16  
**नस्यानी**  
 ईसाई धर्मावलंबी 736 17  
**नस्ल**  
 जाति 730 1  
 नस्ल 243 3 ⇨  
 नृजाति 730 14  
**नस्ल सुधार**  
 प्रजनन 243 2  
 वरीय प्रजनन 243 6  
**नस्ली**  
 नस्ली 243 17 ⇨  
**नह**  
 नख 150 24  
**नहघू**  
 नहघू 800.20 ⇨  
 नहघू गीत 796.25  
 नहघू गीत 796.25 ⇨  
**न हय न ये**  
 तुम 316 17  
**नहर**  
 नहर 23.3 ⇨  
 नहर मार्ग 1066.7  
 परिखा 604 20  
 समुद्री नहर 24.12  
**नहर प्रणाली**  
 नहर प्रणाली 23.5 ⇨  
**नहर मार्ग**  
 नहर मार्ग 1066.7 ⇨  
**नहलाना**  
 आर्द्र करना 88.19

## नहले पर दहला

नहले पर बहला

गुस्तर प्रतिप्रहार 918.5

नही

नख 150.24

नहान

तीर्थ स्नान 221 10

स्नान 221.9

नहान: फुहारा

स्नान फुहारा 221 18

नहाना

स्नान करना 221 22

नहाने बाला

स्नान कर्ता 221.26

नहाया [नहाई]

स्नात 221.25

नहार

अनखाए 181 70

अप्राप्तभोजन 181 52

नहारमूह

अनखाए 181 70

नहारी

उपवास आरंभ भोजन 748 14

प्रातः उपाहार 200.2

नहिअन

विष्णुआ 228 22

न हिलना

प्रयत्न न करना 490.6

नहीं

अस्वीकृति: उक्ति सूची) 338 50

इत्यलं 941.11

नहीं 338.51 ⇐

नहीं तो

अन्यथा 514.25

विकल्पतः 516 6

नहुष

विष्णु 768.1

नहुसत

अकल्याणकारिता 711 2

न होना

अस्तित्व न होना 247.3

घटित न होना 75 9

न होना 505.15 ⇐

रहित होना 1007.2

न हो सकना

असंभव होना 68 10

असाध्य होना 519.17

नांगर

लंगर 1073.17

नीगा

नग्न साधु 790.19

नीधना

पार जाना 1097.9

लौघना 1097 12

नीव

कूड 679.23

नीव 679.36 ⇐

पशु: पानी का होज 18.16

भकभूजा: कडाह 682.6

नांदिकर

नांदी पाठक 468.22

नांदी

कल्याण कामना 710 4

नांदी पाठक 468 22

मंगलाचरण 465.7

मंगलारंभ गीत 796 13

नांदीक

स्वागत तोरण 1059 7

नांदीकर

नांदी पाठक 468 22

नांदी घोष

नांदी घोष 468 20 ⇐

मगल ध्वनि 796 8

नांदी घोषक

मगल ध्वनि कर्ता 796 9

नांदी नाव

हर्षातिरेक रुदन 386 15

नांदीपट

कूप ढक्कन 19.7

नांदी पाठ

नांदी पाठ 468.21 ⇐

नाट्य आरंभ सूची 468.24

पट समक्ष पूर्वरंग सूची 468.19

मंगलाचरण 465 7

मंगलाचरण 796 14

शुभ आरंभ कृत्य सूची 521 3

नांदी पाठक

नांदी पाठक 468 22 ⇐

नांदीमुख

विश्वेदेव 777 9

नांदी रव

हर्षातिरेक रुदन 386 15

नांधना

आरंभ करना 994 11

कार्य आरंभ करना 521 5

जोतना 1079 17

ना

अननुमति 338 3

अस्वीकृति: उक्ति सूची) 338.50

नहीं 338 51

मतभेद 338 4

नाईसाक

न्याय अकर्ता 874 38

नाईसाक्री

न्यायहीनता 874 3

नाइट गाउन

नाइट गाउन 585.49 ⇐

नाइट गाउन (अं)

नाइट गाउन 585.49

नाइट चूट (अं)

स्तीर्षण सूट 583.21

नाइटिंगेल (अं)

गायक पक्षी सूची 126 9

नाइट (अं)

नाइट गाउन 585.49

नाइट्रोजन

नाइट्रोजन 86.6 ⇐

रासायनिक उर्वरक सूची 552.13

नाइट्रोजन (अं)

नाइट्रोजन 86.6

नाइट्रिफाइंग

मतभेद 338.4

नाइन

नवकन्या सूची 774 20

नाइलोन

नाइलोन 569 18 ⇐

नाइलोन 580.28 ⇐

नाइलोन (अं)

नाइलोन 569 18

नाइलोन 580.28

रासायनिक वस्त्र सूची 579 15

नाइस्तीमालशुदा

अनुपमृत्त 525 6

नाइस्तेमाली

अनुपभोग 525 1

नाई

सादृश्य: उक्ति सूची 309.26

नाई

क्षीर कर्मी 224.2

नाई [नाइन]

क्षीर कर्मी 224 2

नाई [नाईन]

विवाह घटक 801 1

नाई [नायन]

क्षीर कर्मी 224 2

शुगार कर्मी 222, 10

नाईगीरी

क्षीर कर्म 224 1

नाई: दुकान

केरा कर्तनालय 224 4

नाउत

भूत निवारण कर्ता 759.9

नाउम्मीद

आशाहीनता 376 1

हताशा 376.2

नाऊ

क्षीर कर्मी 224 2

नाएतबारा [नाएतबारी]

अविश्वासी 341 7

नाक

अंतरिक्ष 2.3

इंद्रिय सूची 268.2

नक्र घड़ियाल 123.6

नाक 142.3 ⇐

नाक: 2

शरीर: नौ रंग सूची 138 3

नाक: कील

लौंग 228.24

नाक की सीध

सीध 974.9

नाक की सीध मे

ठीक सीधे 1098.33

नाक धिसना

अभिमान मर्दित होना 911 7

नाक छिदाई

नकछेदन 798.17

नाक तक

ऊपर तक 1004 17

नाकदरा [नाकदरी]

अगुणज्ञ 306 18

नाक नहना

मुख मंडल 140 11

नाकना

क्षीराबंदी करना 914 16

सीमातिक्रमण करना 1001.32

नाक: नोक

नाक: नोक 142 4 ⇐

नाक बिंधना

नकछेदन होना 798 36

नाक बिंधाई

नकछेदन 798 17

नाक में दम होना

परेशान होना 519 16

नाक रगजना

अभिमान मर्दित होना 911 7

गिड़गिड़ाना 350 13

घाटुकारिता करना 841 26

नाक रगजाई

गिड़गिड़हाट 350 8

ना करना

अस्वीकार करना 338 18

नाकवास

स्वर्ग निवास 259 5

नाक: हडुडी

नासा अस्थि 133 8

नाका

नक्र घड़ियाल 123 6

नाका 1064.9 ⇐

नुकक 1064.8

पहरा घीकी 908.6

सूई नाका 562.24

नाका घीकी

घैक पोस्ट 866.5

नाकाग्री

अपर्याप्त 942.17

नाकाबंद

रुद्ध 272 10

नाकाबंदी

घेराबंदी 914.11

मार्ग अवरोधन 1047 11

नाकाबिल

अयोग्य 304 6

क्षमताहीन 488.15

नाकाम

अनुत्तीर्ण 322 40

अयोग्य 304.6

असफल 513.4

नाकामयाब

अनुत्तीर्ण 322.40

असफल 513.4

पराजित 913.5  
**नाकानव्याबी**  
 असफलता 513 1  
 पराजय 913,1  
**नाकामी**  
 असफलता 513 1  
 पराजय 913 1  
**नाकारा**  
 अप्रयत्नशील 490 9  
**नाकारा [नाकारी]**  
 कार्य अक्षम 488 16  
**नाकिस**  
 अयोग्य 304 6  
**नाकिह**  
 विवाह कर्ता 799 60  
**नाक्षत्र**  
 तारकीय 3 14  
**नाक्षत्र दिवस**  
 तिथि 44 2  
**नाक्षत्रिक**  
 तारकीय 3 14  
**नाक्षत्रिकी**  
 प्रारब्धाधीनता 260 2  
**नाख**  
 खाद्य फल सूची 190.2  
**नाखुदा**  
 कर्णधार 1080 19  
 नाविक 1080 21  
 सकट मोघक 910 10  
**नाखुरा**  
 अप्रसन्न 381 10  
 क्रुद्ध 373.28  
**नाखुरी**  
 अप्रसन्नता 381 3  
**नाखून**  
 नख 150.24  
**नाखून कटाई**  
 नहसू 800.20  
**नाख्खावा**  
 अज्ञ 306.16  
**नाग**  
 असुर सूची 783.8  
 आठ: उपमान सूची 948.32  
 कोबरा 123.19  
 नाग 778.12 ⇌  
 पर्वत 16.3  
 मेघ 55.1  
 सर्प 123.10  
 सर्प सूची 123.16  
 सीसा 94.14  
 हत्थी 127.38  
**नाग कन्या**  
 नाग स्त्री 778.13  
**नागबन्धा**  
 घंटा 14.15  
**नाग: धिहन**  
 नाग: धिहन 778.14 ⇌

**नागधूड**  
 शिव 767 1  
**नागज**  
 रौंणा 94 13  
**नागदंत**  
 दीवार खूँटी 1016 17  
 हाथीदौत 96 30  
**नागदंती**  
 राक्षस स्त्री सूची 784.23  
**नाग दैत्य**  
 नागासुर 778 25  
**नागधर**  
 शिव 767.1  
**नागन**  
 मादा सर्प 123 11  
**नाग: निवास**  
 नाग निवास 778 15 ⇌  
**नाग पंचमी**  
 नाग पंचमी 57.18 ⇌  
**नागपति**  
 ऐरावत 780 5  
 वासुकि नाग 778.21  
**नागपाश**  
 ढाई गौंठ 572.6  
 दिव्य पाश सूची 928 5  
 नागपाश 928.6 ⇌  
**नागपुन्ना**  
 चपा 14 15  
**नाग पूजन**  
 भूमि पूजन 598.4  
**नागफेन**  
 अफ़ीम 212 2  
**नागबल**  
 भीम 771 76  
**नागभूषण**  
 शिव 767.1  
**नाग: माता**  
 कद्दु 787.11  
 क्रोधा 787 12  
 सुरसा 787 28  
**नागनेध यज्ञ**  
 यज्ञ सूची 753.2  
**नागरंग**  
 नारंगी 190.22  
**नागर**  
 देवर 724.28  
 नगर वासी 616 24  
 नागरतापूर्ण 733.16  
 प्रवीण 303.22  
 बुद्धिमान 301.21  
**नागरक**  
 नगर वासी 616.24  
**नागर कला**  
 शास्त्रीय कला 397.7  
**नागरता**  
 नागरता 733.5 ⇌  
 बुद्धिमत्ता 301.5  
 सन्धीकरण 733.1

**नागरतापूर्ण**  
 नागरतापूर्ण 733.16 ⇌  
**नागर मुस्ता**  
 नागर मोथा 281 22  
**नागर मोथा**  
 नागर मोथा 281 22 ⇌  
**नागर सुजीविता**  
 नागर सुजीविता 170 4 ⇌  
**नागर सुजीविता (म)**  
 नागर सुजीविता 170 4  
**नागरराज**  
 ऐरावत 780 5  
 कोबरा 123 19  
 नागरराज 778 17 ⇌  
 शेषनाग 778 22  
**नाग: राजधानी**  
 नाग राजधानी 778 16 ⇌  
**नागरानी**  
 मनसा 774 62  
**नागरिक**  
 नगरीय 620 23  
 नागरिक 883.2 ⇌  
**नागरिक अधिकार**  
 नागरिकता 883 1  
**नागरिकता**  
 नागरता 733 5  
 नागरिकता 883 1 ⇌  
**नागरिक भवन**  
 नगर भवन 695.5  
**नागरिक मार्ग**  
 सार्वजनिक मार्ग 1063.8  
**नागरिक सेवा**  
 राज्य सेवा 890.11  
**नागरी**  
 घतुर्भुज पाषाण पटल 990 20  
 देवनागरी 409 8  
 नगर वासिनी 616.25  
**नागरीकरण**  
 सन्धीकरण 733.2  
**नागरीट**  
 विवाह घटक 801 1  
**नागरीय**  
 सम्यता विषयक 733 12  
**नागल**  
 हल 563.8  
**नाग लोक**  
 पाताल 258.9  
**नागधार**  
 अप्रिय 370.5  
 अरोघक 401 10  
 असह्य 873.14  
**नाग स्त्री**  
 नाग स्त्री 778.13 ⇌  
**नाग स्त्री सूची**  
 नाग स्त्री सूची 778.24 ⇌  
**नागहँ**  
 अकरम्भत 69.13

**नागांगना**  
 मादा हाथी 127 39  
**नागांतक**  
 गरुड 777 15  
 सिंह 127 50  
**नागा**  
 नग्न साधु 790 19  
 नागा 494.7 ⇌  
**नागा (दे.)**  
 अनुपस्थिति 1022 2  
**नागा करना**  
 अनुपस्थित होना 1022 5  
 नागा करना 494.20 ⇌  
**नागारि**  
 गरुड 777 15  
 मोर 126 68  
**नागालैंड**  
 नागालैंड 28.44 ⇌  
**नागालैंड: राजधानी**  
 नागालैंड: राजधानी 28.45 ⇌  
**नागा संप्रदाय**  
 नागा संप्रदाय 737 57 ⇌  
**नागासुर**  
 नागासुर 778.25 ⇌  
**नागिन**  
 नाग स्त्री 778 13  
 पनडुब्बा 126 48  
 मादा सर्प 123.11  
 रोम लहरी 135 7  
**नागिनी**  
 नाग स्त्री 778.13  
**नागी**  
 मादा हाथी 127.39  
**नागेंद्र**  
 ऐरावत 780 5  
 नागरराज 778 17  
**नागेश**  
 शेषनाग 778 22  
**नागेधर**  
 ऐरावत 780 5  
 ज्योतिर्लिंग सूची 746 19  
 शेषनाग 778 22  
**नागोदर**  
 वक्ष कवच 921 9  
**नाघ**  
 नृत्य 462 3  
**नाघ कूड**  
 उछल कूद 1086.1  
**नाघगान**  
 नृत्य गान 462.1  
**नाघ गाना**  
 नृत्य गान 462.1  
**नाघधर**  
 नृत्य शाला 471.8  
**नाघना**  
 अति आनंदित होना 382 12  
 घुमना 1033.14  
**नाघना 462.26 ⇌**

## नाघने वाली

परेशान होना 519 16  
 नाघने वाली  
 नर्तकी वेरया 807.7  
 नाघ महल  
 नृत्य शाला 471 8  
 नाघरंग  
 मनोरजन 469 1  
 नाघार  
 साघनहीन 558 20  
 नाघारगी  
 विवशता 901 3  
 नाधिकेत  
 ऋषि मुनि सूची 789 17  
 नाधीज़  
 नगण्य 853 10  
 नगण्य व्यक्ति 853 4  
 विनम्र सेवक 651 3  
 नाधीज़ बंदा  
 नगण्य व्यक्ति 853 4  
 नाज़  
 अनाज़ 187 1  
 नाज़  
 अभिमान 858 1  
 नाज़  
 आहार पदार्थ 186 1  
 नाज़  
 नाज़ नख़रा 860 1  
 रूप अभिमान 860.6  
 नाज़ गोदाम  
 अनाज़ गोदाम 670 18  
 नाज़दार  
 नख़रेबाज़ 860.18  
 नाज़ नख़रा  
 नाज़ नख़रा 860.1 ⇨  
 नाज़ नख़रा करना  
 नाज़ नख़रा करना 860.12 ⇨  
 नाज़नीन  
 कोमलागिनी 159.10  
 रूप अभिमानिनी 860 22  
 सुन्दर स्त्री 157 2  
 नाज़ बाज़ार  
 अनाज़ मंडी 683 11  
 नाज़ मंडी  
 अनाज़ मंडी 683.11  
 नाज़ी  
 अभिमानिनी 858 10  
 रूप अभिमानिनी 860 21  
 नाज़ी [नाज़नीन]  
 अभिमानिनी 858 10  
 नख़रेबाज़ 860 18  
 नाज़ायज़  
 अवैध 878.27  
 असंगत 439.5  
 जारज 716.18  
 निविद्ध 880.12  
 नाज़िम  
 प्रबंधक 655 9  
 शासक 890.5

नाज़िर  
 अवलोकक 284 48  
 नाज़िल  
 अवतरित 769 42  
 सहसा आगत 1093 15  
 नाज़ीबाद  
 नात्सीबाद 884.34  
 नाज़ुक  
 अद्भुत 159.16  
 अबलिष्ट 159 12  
 कोमल 269.18  
 कोमलाय 159 9  
 क्षीणकाय 159.13  
 धिताजनक 377 12  
 मर्मस्थ 999 14  
 संकटात्मक 909 21  
 नाज़ुकदिमाग  
 उत्कृष्टता प्रेमी 400 20  
 नाज़ुकमिज़ाज  
 उत्कृष्टता प्रेमी 400.20  
 नाज़ुकी  
 कोमलागता 159.1  
 नाज़ो  
 प्रेमपात्रा 369.5  
 रूप अभिमानिनी 860 22  
 नाज़ो अदा  
 नाज़ नख़रा 860 1  
 नाट  
 कर्नाटक 28 19  
 नृत्य नाट्य 462 2  
 राग रागिनी सूची 457 24  
 नाटक  
 छद्म वेश 589 16  
 दृश्य काव्य 451 9  
 नाटक आलेख 466 4  
 नाटक कथा 466.1  
 पाखंड 825.2  
 मंच नाटक 463 1  
 नाटक अंक  
 नाटक अंक 463.25 ⇨  
 नाटक: अंत  
 भरत वाक्य 465 6  
 यवनिका पात 606.3  
 नाटक आरंभ  
 मंगलाचरण 465 7  
 नाटक आलेख  
 नाटक आलेख 466.4 ⇨  
 नाटक उपक्रम  
 पूर्व पीठिका 466.17  
 नाटक कथा  
 नाटक कथा 466.1 ⇨  
 नाटक कथा वाचक  
 कथा उद्घोषक 467.3  
 नाटक करना  
 मंचित करना 468.32  
 नाटक कर्मी  
 मंच कर्मी 468.9

नाटककार  
 नाटककार 448.7 ⇨  
 नाटक की दुनिया  
 नाट्य जगत 470 2  
 नाटक घर  
 नाट्यशाला 471 12  
 नाटक दृश्य  
 नाटक दृश्य 463.26 ⇨  
 नाटक पात्र  
 धरित्र पात्र 467 1  
 नाटक फलागम  
 नाटक फलागम 466.16 ⇨  
 नाटक भूमिका  
 पात्र भूमिका 467 2  
 नाटक मंच  
 रगमंच 471.14  
 नाटक मंचन  
 मंचन 468 1  
 नाटक में नाटक  
 नाटक में नाटक 463.2 ⇨  
 नाटक लेखक  
 नाटककार 448 7  
 नाटक संवाद  
 नाटक संवाद 465.1 ⇨  
 नाटक संसार  
 नाट्य जगत 470 2  
 नाटकावतार  
 नाटक में नाटक 463 2  
 नाटकिया  
 अभिनेता 464 5  
 छद्म वेशी 589.17  
 स्त्रीगी 464.14  
 नाटकीय  
 नाटकीय 466.19 ⇨  
 नाटकीयता  
 नाटकीयता 466.2 ⇨  
 नाटा [नाटी]  
 ठिंगना 154 18  
 नाटा घोड़ा  
 टट्टू 127 34  
 नाटिका  
 नाटक आलेख 466.4  
 नाटिकाख्यायिका दर्शन  
 चींसठ कला सूची 397.4  
 नाटित  
 मंचित 468 34  
 नाट्य  
 चींसठ कला सूची 397 4  
 नृत्य 462 3  
 नृत्य नाट्य 462.2  
 मंच नाटक 463.1  
 मंचनीय 468.35  
 नाट्य अंत सूची  
 नाट्य अंत सूची 468.25 ⇨  
 नाट्य आभूषण  
 पात्र आभूषण 464.37  
 नाट्य आरंभ सूची  
 नाट्य आरंभ सूची 468.24 ⇨

नाट्य: आरंभिक कृत्य  
 पूर्वरंग 468 17  
 नाट्य कथा  
 नाटक कथा 466.1  
 नाट्य कला  
 कला सूची 397.12  
 नाट्यकार  
 नाटककार 448.7  
 मंच निर्देशक 468.11  
 सूत्रधार 468 13  
 नाट्य जगत  
 नाट्य जगत 470.2 ⇨  
 नाट्यधर  
 अभिनेता 464.5  
 नाट्य निर्देशक  
 मंच निर्देशक 468 11  
 नाट्य प्रस्तुति  
 मंचन 468 1  
 नाट्य फल  
 नाट्य अंत सूची 468 25  
 नाट्य मंदिर  
 नाट्यशाला 471 12  
 नाट्य मेकअप  
 नाट्य मेकअप 464.39 ⇨  
 नाट्य लोक  
 नाट्य जगत 470 2  
 नाट्य वेश  
 नाट्य वेश 464.38 ⇨  
 नाट्यशाला  
 नाट्यशाला 471.12 ⇨  
 नाट्य शास्त्र  
 नाट्य शास्त्र 463.24 ⇨  
 नाट्य संसार  
 नाट्य जगत 470.2  
 नाट्य सिद्धि  
 नाट्य सिद्धि 468.29 ⇨  
 नाट्य सिद्धि निर्णय  
 नाट्य सिद्धि निर्णय 468.30 ⇨  
 नाट्य सिद्धि निर्णायक  
 नाट्य सिद्धि निर्णायक 468.31 ⇨  
 नाट्यपात  
 यवनिका पात 606.3  
 नाट्यगागर  
 नाट्यशाला 471 12  
 नाट्यारंभ  
 यवनिका उत्थान 606 2  
 नाट्योक्ति  
 नाटक संवाद 465.1  
 नाट्योचित  
 मंचनीय 468.35  
 नाठ  
 अनस्तित्व 247.1  
 उत्तराधिकारीहीनता 623.18  
 नाड  
 ग्रीवा 145.1  
 नाड  
 पोला डठल 114.3

<b>नाका</b>	<b>नालेवारी</b>	सैनिक लूटपाट 864 25	<b>नानबाई भट्टी</b>
नाडा 571 10 ⇨	रिश्तेदारी 715.5	<b>नादिरा</b>	बेकरी 109 15
<b>नाका डालनी</b>	<b>नाले से</b>	छिपा पत्ता 479 20	<b>नानस</b>
नाडा डालनी 571.11 ⇨	संबंधत 715 14	<b>नादिहंद</b>	नानस 724 17 ⇨
<b>नाखिका</b>	<b>नाल्काबंद</b>	भुगतान अकर्ता 639 18	<b>नानसरा</b>
घटी 50 12	रुद्ध 272 10	<b>नादी</b>	नानसरा 724 16 ⇨
<b>नाखिया</b>	<b>नात्र</b>	घोर ध्वनिक 294 28	<b>नानसरा: पत्नी</b>
वैद्य 172 8	स्तोत्र 741.16	ध्वनिकारी 294 22	नानस 724 17
<b>नाकी</b>	<b>नात्सीवाद</b>	<b>नादी [नादिनी]</b>	<b>नाना</b>
नली 684 4	नात्सीवाद 884 34 ⇨	वादक 461 2	अनेक 940 10
पोला डठल 114 3	<b>नाथ</b>	<b>नादुरुस्त</b>	नाना 722 30 ⇨
वाहिका 131 10	पति 803 5	असगत 439 5	<b>ना ना</b>
<b>नाडीका</b>	संपेरा 473 25	<b>नादे अली</b>	ना ना 338 52 ⇨
श्वास वाहिका 145 15	स्वामी 621 2	गडा तादीज सूची 759 5	<b>नाना</b>
<b>नाडी पात्र</b>	<b>नाथन</b>	<b>नादेय</b>	पुदीना 281 23
जलघड़ी 50 17	अतर्क्यन 271 1	अदेय 639 21	विविध 310 8
<b>नाकी ब्रण</b>	<b>नाथना</b>	अनादेय 639 20	<b>नानात्मवाद</b>
नासूर 167 3	नत्थी करना 417 14	सेधा नमक 279 9	साख्यवाद 760 26
<b>नाकी शास्त्र</b>	पिरोना 573 13	<b>नाथना</b>	<b>ना ना ना</b>
सरोधा शास्त्र 262 16	वशापीन करना 901 6	जोतना 1079 17	सनिश्चय नहीं 338 53
<b>नाकी स्पंदन</b>	<b>नाथ पंथ</b>	सकल्प करना 500 6	<b>नाना परनाना [नानी परनानी]</b>
नन्न स्पंदन 1039 3	गोरख पंथ 737 56	सूत्रबद्ध करना 573 12	गुरुजन समष्टि 722 1
<b>नाके की गौठ</b>	<b>नाथ संप्रदाय</b>	<b>नाधा</b>	<b>नानारूप</b>
डेढ़ गौठ 572 4	गोरख पंथ 737 56	जोत रस्ती 555 16	अनेकाकार 967 15
<b>नाकेदानी</b>	<b>नाद</b>	<b>नान</b>	विविध 310 8
नाडा डालनी 571 11	गडगडाहट 297.10	नान 202 23 ⇨	<b>नानारूपता</b>
<b>नात</b>	घोर ध्वनि 294 6	<b>नानक देव</b>	अनेकाकारता 967 4
इसलामी पूजा गीत सूची 749 27	ध्वनि 294 1	नानक देव 794.4 ⇨	विविधता 310 3
प्रशसा गीत 841 6	योग ध्वनि 756 16	<b>सिख गुरु सूची</b> 794 2	<b>नानार्थ</b>
<b>नातजर्बेकार</b>	<b>नादन</b>	<b>नानक पंथ</b>	विविध 310 8
अनुभवहीन 304 8	ध्वनन 294 2	<b>सिख धर्म</b> 737 19	<b>नानाविध</b>
<b>नातजर्बेकारी</b>	<b>नादना</b>	<b>नानक पंथी</b>	विविध 310 8
अनुभवहीनता 304 3	ध्वनि करना 294 15	<b>सिख धर्मावलंबी</b> 737.20	<b>नाना ससुर</b>
<b>नातमाम</b>	बजाना 461.103	<b>नानक शाही</b>	नानसरा 724 16
अपूर्ण रचित 528 8	<b>नादपूर्ण</b>	<b>सिख धर्मावलंबी</b> 737 20	<b>नानी</b>
असमाप्त (कार्य) 523 6	कोलाहलपूर्ण 294 30	<b>नानका</b>	नानी 722 31 ⇨
<b>नातवी</b>	स्वर सामंजस्यपूर्ण 460.45	<b>ननिहाल</b> 801.6	<b>नानी की कहानी</b>
शक्तिहीन 488 10	<b>नाद ब्रह्म</b>	<b>नानक देव</b> 794 4	बाल कथा 450 5
<b>नातवानी</b>	ओम् 741 19	माता पक्ष 722 29	<b>नानी मरना</b>
अबलिष्ठता 159.3	योग ध्वनि 756 16	<b>नानके वाले</b>	साहस टूटना 395 17
<b>नाता</b>	शब्द ब्रह्म 764 30	माता पक्ष 722 29	<b>ना नुकर</b>
रिश्तेदारी 715.5	स्वर सामंजस्य 460 15	<b>नानस्यताई</b>	अस्वीकृति 338 1
संबंध 715 1	<b>नादान</b>	नानस्यताई 202.41 ⇨	ना ना 338 52
<b>नाताकृती</b>	अनुभवहीन सरल 817 9	<b>नानस्यवाह</b>	बहानेबाजी 495 5
शक्तिहीनता 488.1	मूर्ख 302 7	अजवायन 281 7	<b>नाने परनाने</b>
<b>नातिन</b>	<b>नावानी</b>	<b>नानपञ्ज</b>	गुरुजन समष्टि 722 1
धेवती 722 37	अप्रवीणता 304.4	नानफरोरा 194.13	<b>नाप</b>
पोती 722.15	बालवत्ता 230.22	<b>नानपञ्जी</b>	आकार माप 961 1
<b>नाती</b>	मूर्खता 302 1	नानपञ्जी 195 26 ⇨	माप 958 1
धेवता 722 36	<b>नादित</b>	<b>नानफरोरा</b>	मापन 958.2
पोता 722.14	ध्वनित 294 21	नानफरोरा 194 13 ⇨	लंबाई माप 958 12
रिश्तेदार 715.6	वादित 461 105	<b>नान फरोरा</b>	<b>नापजोख</b>
<b>नाले</b>	<b>नादिया</b>	नानफरोरा 194 13	क्षेत्र मापन 599 17
कारणतः 507 7	नंदी 767.14	<b>नान बनाई</b>	मापन 958 2
संबंधतः 715 14	<b>नादिर शाही</b>	नानपञ्जी 195.26	<b>नापतील</b>
<b>नालेदार</b>	अत्याचार 835.3	<b>नानबाई</b>	मापन 958.2
रिश्तेदार 715.6	नादिर शाही 884.3 ⇨	नानफरोरा 194 13	<b>नापदंड</b>
	मारकाट 905.25		मानदंड 957.5

## नापन

नापन  
 शैक्षिक मापन 959.2  
 नापना  
 मापना 958.55  
 मापना 959.60  
 नापने वाला  
 नापने वाला 959.61  
 नापसंद  
 अनिच्छनीय 360.11  
 अप्रिय 370.5  
 अरोचक 401.10  
 नापसंद 401.9 ⇨  
 नापसंदगी  
 अप्रियता 370.1  
 नापसंदगी 401.2 ⇨  
 नापसंद: विह्वल  
 अस्वीकृति विह्वल 407.5  
 नापसंदीदा  
 नापसंद 401.9  
 नापसंदी पर बापस क्रय  
 जाकड़ खरीद 660.8  
 नापाक  
 उच्छिष्ट 198.11  
 घृणित 370.6  
 मलिन 217.6  
 नापाकी  
 मलिनता 217.1  
 नापायदार  
 अल्प कालीन 38.8  
 अस्थिर 1037.22  
 विचलनशील 501.12  
 नापायदारी  
 अस्थिरता 1037.6  
 नश्वरता 38.2  
 नापित  
 क्षीर कर्मा 224.2  
 नापित कर्म  
 क्षीर कर्म 224.1  
 नापित्य  
 क्षीर कर्म 224.1  
 नापी  
 शैक्षिक मापी 959.3  
 नापैद  
 अनुपलब्ध 942.18  
 नाफ़  
 नाभि 148.3  
 नाफ़रमी  
 अवज्ञा कर्ता 348.7  
 नाफ़ रमान  
 उपेक्षक 185.8  
 नाफ़रमानी  
 अवज्ञा 348.1  
 नाफ़ रमानी  
 उपेक्षा 185.2  
 नाफ़रमानी  
 शासन अवज्ञा 348.2  
 नाबवान  
 धुकदानी 218.23

नाली 23.12  
 परनाला 23.9  
 नाबालिग  
 अवयस्क 229.22  
 नाबालिग: संपत्ति  
 बालघन 623.5  
 नाबूद  
 अस्तित्वहीन 247.6  
 नष्ट 531.7  
 नाभि  
 केंद्र बिंदु 971.1  
 केंद्रीय स्थान 971.5  
 घक बिंदु 971.4  
 नाभि 148.3 ⇨  
 पहिया. नाभि 1077.4  
 मध्य भाग 996.3  
 वंश 727.1  
 नाभिक  
 केंद्र बिंदु 971.1  
 केंद्र बिंदु विषयक 971.18  
 नाभिक 129.4 ⇨  
 नाभिका  
 नाभि कूप 148.4  
 नाभिकाय  
 नाभिक 129.4  
 नाभि कूप  
 नाभि कूप 148.4 ⇨  
 नाभि गड्डा  
 नाभि कूप 148.4  
 नाभि छल्ला  
 नाभि छल्ला 1077.5 ⇨  
 नाभि छिद्र  
 नाभि छिद्र 1077.6 ⇨  
 नाभिजन्मा  
 ब्रह्मा 766.1  
 नाभि मूल  
 नाभि मूल 148.5 ⇨  
 नाभि से ऊपर: बलय  
 त्रिवलय 134.9  
 नाभि से नीचे: बलय  
 गुञ्जरीट 134.10  
 नाभिसोम (घ्र)  
 नाभिक 129.4  
 नाभील  
 नाभि कूप 148.4  
 नाभि मूल 148.5  
 पेड़ 148.9  
 नाभ्य  
 शिव 767.1  
 नाभ्यजूर  
 अपारित 329.28  
 अस्वीकृत 338.33  
 नाभ्यजूरी  
 अपारण 329.8  
 अस्वीकृति 338.1  
 नापसंदगी 401.2  
 नाम  
 कारणतः 507.7

ख्याति 847.1  
 नाम 315.2 ⇨  
 परिचय 315.1  
 प्रतिष्ठा 849.2  
 लेखे मे 632.40  
 शीर्षक 447.17  
 नाम आसमान पर होना  
 ख्याति होना 847.2  
 नाम उछलना  
 कुख्याति होना 848.3  
 नामक  
 नामक 315.13 ⇨  
 नाम कमना  
 ख्याति होना 847.2  
 नामकरण  
 नामकरण 315.9 ⇨  
 नामकरण करना  
 नाम देना 315.12  
 नामकरण कृत  
 नामकृत 315.15  
 नामकरण: नाम  
 नामकरण नाम 315.10 ⇨  
 नामकरण संस्कार  
 क्रिस्निंग 798.31  
 नाम कर्म  
 नामकरण 315.9  
 सोलह संस्कार सूची 798.3  
 नाम कर्म करना  
 नाम देना 315.12  
 नाम कीर्तन !  
 कीर्तन 749.30  
 नामकृत  
 नामकृत 315.15 ⇨  
 नाम ग्राम  
 पता निर्देश 444.14  
 नामघार  
 अत्यल्प 942.16  
 तथाकथित 821.21  
 नामघारतः  
 तथाकथितत 821.24  
 नामघारता  
 तथाकथितता 821.10  
 नामधीन  
 ख्यात 847.3  
 नामजद  
 मनोनीत 888.36  
 नामजद करना  
 मनोनीत करना 888.32  
 नामजदगी  
 मनोनयन 888.21  
 नाम जाप  
 जप 749.2  
 नाम ठीव  
 पता निर्देश 444.14  
 नाम सूचना  
 प्रतिष्ठा हानि होना 850.4  
 नामदार  
 नामकृत 315.15

प्रतिष्ठित 849.15  
 विशिष्ट जन 728.13  
 नाम देना  
 नाम देना 315.12 ⇨  
 नामधारी  
 नामक 315.13  
 नाम धेय  
 संज्ञा 425.14  
 नामन  
 नामकरण 315.9  
 मनोनयन 888.21  
 नाम निर्दिष्ट  
 मनोनीत 888.36  
 नाम निर्देशन  
 मनोनयन 888.21  
 नामपट  
 नेमप्लेट (अं) 442.15  
 नामपट्ट  
 नेमप्लेट (अं) 442.15  
 नाम पट्टी  
 नेमप्लेट (अं) 442.15  
 नाम पता  
 पता निर्देश 444.14  
 नाम पता सूची  
 डायरेक्टरी 993.12  
 नाम पत्रक  
 आत्मपरिचय पत्र 704.5  
 नाम पर  
 संबंधतः 715.14  
 नाम फैलाना  
 प्रशंसा करना 841.24  
 नाम भर का  
 तथाकथित 821.21  
 नाम भर को  
 तथाकथितत 821.24  
 नाममात्र  
 अत्यल्प 942.16  
 तथाकथित 821.21  
 तथाकथितत 821.24  
 नाममात्र का  
 तथाकथित 821.21  
 नाममात्र को  
 अत्यल्पतः 942.24  
 तथाकथिततः 821.24  
 नाममात्रता  
 अत्यल्पता 942.2  
 तथाकथितता 821.10  
 नाममात्र: परिचय  
 अल्प परिधिता 704.10  
 नाम मुद्रा  
 नामांकित अंगूठी 228.4  
 नामयुक्त  
 नामक 315.13  
 नाम रखना  
 नाम देना 315.12  
 नाम रखाई  
 नामकरण 315.9

नामरासी	नामांत स्त्री उपाधि सूची	उत्तमता उपमान सूची 313 4	नार
सहनामी 315.16	नामांत स्त्री उपाधि सूची 856.9 ⇨	गीतम बुद्ध 793 1	जल 88 1
नामरूपहीन ब्रह्म	नामा	दल नायक 852 6	मोटा रस्सा 570 8
निर्गुण ब्रह्म 764.28	नामक 315 13	नायक 467 5 ⇨	स्त्री 236.3
नामई	नामाकूल	निदेशक 347 17	नारक
कापुरुष 395.29	अयोग्य 304.6	नेता 346 2	नारकीय 259 12
नपुंसक 238.18	असंगत 439.5	प्रेमी 368 2	नारकिक
हिजडा 238 5	तर्कहीन 325 22	महापुरुष 839 3	नरक निवासी 259.13
नामई	संदर्भहीन 439 7	मार्ग प्रदर्शक 1098 4	नारकीय
कापुरुषता 395 12	नामातीत	मुखिया 852 7	नरक निवासी 259 13
नाम लिखा	अपरिभाष्य 317 20	विष्णु 768 1	नारकीय 259.12 ⇨
आरक्षित 660 20	नामातीतता	शृंगारी नायक 456 1	पापी 812 12
नाम लिखाना	अपरिभाष्यता 317 4	संस्था अध्यक्ष 692 2	नारद
आरक्षित करना 660.15	नामानुशासन	सेनापति 935 1	ऋषि मुनि सूची 789 17
नाम लेना	शब्दकोश 446 12	नायकता	गधर्व सूची 778.5
कीर्तन करना 749 46	नामाभिधान	दल नायकता 852 5	विष्णु चौबीस अवतार सूची 769 9
जपना 749 39	शब्दकोश 446.12	नायकत्व	नारद गुरु
नामलेखा	नामालुप्त	नेतृत्व 346 1	नारायण (नर) 764 19
उत्तराधिकारी 623 2	अज्ञात 306 12	नायक नायिका: दुष्कृतक पात्र	नारद पुराण
वशज 727.24	अत्यल्प 942.16	खलनायक 467 9	पुराण सूची 740 17
नाम व पता	रक्षित (रहस्य) 823 14	नायक सखा	नारदः शिष्य
पता 444 13	नामावर	नर्म सचिव 467 17	तुवरु 778 7
नामवर	पत्र वाहक 444 18	नायका	नारसाई
ख्यात 847 3	नामावरी	कुटनी 807 11	अप्रवेश्यता 519 8
नामवरी	पत्र वहन 444 17	नायिका 467 10	नारसिंहवपु
ख्याति 847 1	नामावली	नायब	विष्णु 768 1
नाम बाला	रामनामी चादर 585 11	क्लर्क 652 36	नारा
ख्यात 847.3	नामित	खलीफा 744 17	आदोलन नारा 902 9
नामक 315 13	नामकृत 315 15	सहकारी कर्मचारी 652 31	कलावा 569 23
प्रशंसित 841 29	मनोनीत 888 36	नायबी	जल 88 1
नाम सूची	नामी	सहकर्मचारिता 652 30	नाराब
डायरेक्टरी 993.12	ख्यात 847 3	नायलोन (अँ)	बाण 926 16
नाम से	नामक 315 13	नाइलोन 569 18	नाराज
संबंधतः 715 14	लीवर 1062 3	नाइलोन 580 28	अप्रसन्न 381 10
नाम स्वरण	नामी गिरामी	नायाब	क्रुद्ध 373 28
जप 749.2	ख्यात 847 3	अनुपलब्ध 942 18	रुष्ट 374 17
नामहीन	प्रतिष्ठित 849 15	दुर्लभ 942 19	नाराजगी
अप्रतिष्ठित 850 5	नामी सनाम	नायिका	अप्रसन्नता 381 3
नामहीन 315.14 ⇨	विशिष्ट जन 728 13	अभिनेत्री 464 6	डॉट 373.11
नामहीनता	नामुनासिब	अष्ट नायिका 774 45	रुष्टि 374 2
अख्याति 848.2	असंगत 439.5	नायिका 467.10 ⇨	वैमनस्य 706 10
नामांक	नामुमकिन	प्रेमिका 368 3	नाराजी
मनोनीत 888.36	असमय 68 14	युवती 231 9	अप्रसन्नता 381 3
नामांकन	असाध्य 519 22	शृंगारी नायिका 456 6	नारायण
मनोनयन 888.21	नापुराब	नायिका सूची	ईश्वर 764 1
नामांकन करना	अपूर्णच्छ 362.5	नायिका सूची 774 46 ⇨	ऋषि मुनि सूची 789 17
मनोनीत करना 888.32	असफल 513 4	नारंग	दिव्यास्त्र सूची 928 2
नामांकित	नामीजू	विट 467.18	विष्णु 768 1
मनोनीत 888.36	असंगत 439.5	नारंगी	नारायण (नर)
नामांकित अँगूठी	नाम्ना [नाम्नी]	खाद्य फल सूची 190 2	नारायण (नर) 764.19 ⇨
नामांकित अँगूठी	नामक 315.13	नारंगी .190.22 ⇨	नारायणः शक्ति
नामांकित करना	नाम्य	नारंगी 289.48 ⇨	लक्ष्मी 775.1
मनोनीत करना 888.32	नाम्य 1050.32	वर्णाली रंग सूची 289.9	नारायणी
नामांत पुरुष उपाधि सूची	परिभाष्य 317 19	नारंगी बत्ती	ऋषि स्त्री सूची 789.25
नामांत पुरुष उपाधि सूची 856.8 ⇨	नाई	नारंगी बत्ती 1067.16 ⇨	योग नाया 771.82
नामांतर	नहीं 338.51	नारंजी	लक्ष्मी 775.1
उपनाम 315.3	नायक	नारंगी 190.22	ललिता देवी 774.80
	अभिनेता 464.5		

## नारायणी धर्म

### नारायणी धर्म

भागवत धर्म 737 40

### नारायणीय धर्म

वैष्णव सप्रदाय 737 49

### नारायणी सेना

कृष्ण सेना 771 19

### नाराशांस

नाराशांस 741 8 ⇐

प्रशासा गाथा 841 7

प्रशासा गीत 841 6

मरसिया 452 24

यज्ञ घमस 753 23

### नारिकेल

नारियल 13 11

### नारियल

घिलम 213 11

तिहलन सूची 196 14

नारियल 13 11 ⇐

### नारियल: खोपड़ी

नारियल खोपड़ी 112 5 ⇐

### नारियल: गिरी

नारियल गिरी 112 6 ⇐

### नारियल जटा

कोयर 569 6

### नारियल फोड़ना

उद्घाटन करना 693 6

### नारियल बरतन

नारियल बरतन 680 5 ⇐

### नारी

समसख्या 949 8

स्त्री 236 3

### नारीत्वपूर्ण

स्त्रीत्वपूर्ण 236 24

### नारी निकेतन

नारी निकेतन 601 12 ⇐

### नारी परिधान

स्त्री परिधान 583 10

### नारीय

स्त्रीय 236 23

### नारी रत्न

महान स्त्री 839 4

### नारी: शुक्ल खंड

प्रज्ञा 774 53

### नारी सुलभ

स्त्रीत्वपूर्ण 236 24

### नारी सोम

ऐक्स क्रोमोसोम 130 3

### नारीयुधित

स्त्रीत्वपूर्ण 236 24

### नारसीसिद्धि (अं)

आत्ममोह 353 17

### नाल

खुरत्राण 555 29

डठल 114 1

नाल 588 31 ⇐

पोल: डठल 114 3

### नाला

नाला 23 8 ⇐

1152

### नाला नाली

नाला नाली 23 6 ⇐

### नालायक

अधम 840 4

अनुपयोगी 525 8

अयोग्य 304 6

निकृष्ट 314 5

### नालायक बेटा

कपूत 718 4

### नालायक्री

अयोग्यता 304 1

### नालिश

अभियोग 875 3

याधिका 875 15

### नाली

उप नहर 23 4

खाँचा 406 28

नाली 23 12 ⇐

मोरी 23 13

लीक 1063 16

### नाली का साग

साग सञ्जी सूची 189 4

### नालीदार

कोरुगेटिड 974 22

### नालीर

मुकरने वाला 338 41

### नाव

ख्वान 685 11

जलयान 1072 1

ट्रे 685 10

नौका 1072 2

रक्षा नौका 1072 32

### नावक

नाविक 1080 21

विषाक्त बाण 926 17

### नाव खिचार्ई

नौका कर्षण 1080 3

### नावघर

बोट हाउस 1069 29

### नाव घाट

नौका घाट 1069 12

### नाव: डौंड हत्था

नाव डौंड हत्था 596 27 ⇐

### नावनीत

नम्य 1050 32

मृण्मय 545 34

### नावनीतता

मृण्मयता 545 19

### नाव पुल

तैरता पुल 1065 12

### नाव मालिक

नौ प्रभु 1080 15

### नाव यात्री

जल यात्री 1087 16

नाव रोक कर खड़े रहना

लगर डालना 1080 34

### नाव लहर

अनुतरण 867 8

### नावलैट (अं)

उपन्यासिका 450 9

### नावाकिफ

अपरिचित 697.16

### नावाजिब

अवैध 878 27

### नावारोह

जल यात्री 1087 16

### नाविक

गुहराज 770 26

नाविक 1080 21 ⇐

### नाविक कर्म

नौकायन 1080 1

### नाविक का तीर

कटाक्ष 844 3

### नाविक गीत

भटियाली 457 38

### नाविक मील

समुद्री मील 959 26

### नाविकीय

नाविकीय 1080 40 ⇐

### नावी

नाविक 1080 21

### नावेल (अं)

उपन्यास 450 8

### नाव्य

नाविकीय 1080 40

नाव्य 1080 46 ⇐

### नाव्यता

जलराशि नाव्यता 1080 28

### नाव्य भार

माल भार 1061 7

### नाश

नाश 531 1 ⇐

पलायन 916 1

प्रलय 530 1

विलयन 21 28

### नाशक

नाशक 531 8 ⇐

प्रलयकर 530 8

भजक 539 15

मत्र नाशक 758 9

मारक 251 24

### नाशकता

नाशकता 531 2 ⇐

### नाश करना

नष्ट करना 531.5

### नाश न होना

नाश न होना 533 8 ⇐

### नाशपाती

खाद्य फल सूची 190.2

### नाशवत्ता

नश्वरता 38 2

### नाशवाद

शून्यवाद 760 25

### नाशवान

नश्वर 38 7

### नाशाशील

नश्वर 38 7

### नाशाशीलता

नश्वरता 38 2

### नाशाहीन

अनश्वर 37 9

ब्रह्म 764 24

### नाशाहीनता

अनश्वरता 37 3

### नाशाद

अप्रसन्न 381 10

धिताग्रस्त 377 10

### नाशी

नश्वर 38 7

नाशक 531 8

### नाशुक्रा

अकृतज्ञ 833 10

### नाशुक्री

अकृतज्ञता 833 3

### नाशता

उपाहार 200 1

### नाशता पानी

उपाहार 200 1

### नास

नाक 142 3

### नासत्य युगल

अश्विनी कुमार 773 3

### नासमञ्ज

अवयस्क 229 22

अविवेकी 302.11

मूर्ख 302 7

व्यवहार अकुशल 829 9

### नासमञ्जी

अविवेक 302.4

बालवत्ता 230 22

मूर्खता 302 1

व्यवहार अकुशलता 829 2

### नासा

नाक 142 3

### नासा अस्थि

नासा अस्थि 133.8 ⇐

### नासाग्र

नाक नोक 142 4

### नासाज्ञ

रोगग्रस्त 162 5

### नासाज्ञी

रोगग्रस्तता 162.1

### नासा दाढ

घोखट शीर्ष काष्ठ 609.2

### नासापटी

नासापटी 142.5 ⇐

### नासा पुट

नासा पुट 142.6 ⇐

### नासाभल

देह मल सूची 215 2

### नासा बंध

नासा अस्थि 133.8



नासास्थि  
नासा अस्थि 133.8  
नासिका  
उच्चारण स्थान सूची 411 10  
नाक 142 3  
सुँड़ 142 7  
नासिका मल  
नासिका मल 215 17 ⇨  
नासिक्य  
अनुनासिक वर्ण 410 8  
नासिर  
अधीनस्थ कर्मचारी 652 33  
नासीर  
अग्रयोद्धा 934 17  
सेनाग्र 933 1  
नासूर  
नासूर 167 3 ⇨  
नासेह  
इस्लामी धर्मापदेशक 742 24  
धर्म उपदेशक 742 22  
वाइज 744 25  
नास्तिक  
धर्महीन 735 15  
नास्तिकता  
नास्तिकतावाद 760 14  
नास्तिकतावाद  
नास्तिकतावाद 760.14 ⇨  
नास्य  
नसवार 213 5  
नाह  
कूट पाश 1013 9  
पति 803 5  
पहिया नाभि 1077 4  
पाश 1013 8  
पाश बधन 868 7  
नाहक  
प्रयोजनहीन 509 3  
प्रयोजनहीनत 509 5  
नाह नूह  
ना ना 338 52  
नाहर  
बाघ 127 55  
सिंह 127 50  
नाहीं  
नहीं 338 51  
निदक  
निदक 843.22 ⇨  
निदन  
निदन 843.2 ⇨  
निदनीय  
अधम 840.4  
निदनीय 843.21 ⇨  
निदनीयता  
अधमता 840 1  
निदरना  
निदा करना 843 14  
निदरा  
निद्रा 266 1

निदरिया  
निद्रा 266 1 .  
निदा  
धुत्कार 855 4  
घिक्कार 843 5  
नमाज़ तबरी 751 16  
निदा 843.1 ⇨  
परिगर्हा 870 4  
शिकायत 843 12  
निदा (दै.)  
कुख्याति 848 1  
निदाई  
निराई 548 31  
निदा करते घूमना  
निदा करते घूमना 843 15 ⇨  
निदा करना  
निदा करना 843.14 ⇨  
निदा द्वारा आत्म प्रशंसा  
परिजल्प 435 12  
निदाना  
निराना 548 45  
निदा पुराण  
निदा पुराण 843 4 ⇨  
निदा प्रशंसा  
कला समीक्षा 398 3  
निदासा [निदासी]  
अलसाया [अलसाई] 490 13  
तद्रिल 266 16  
निदित  
निदित 843 20 ⇨  
निदिया  
निद्रा 266 1  
निध  
निदनीय 843 21  
निफोमेनिया (अँ)  
अप्सरोन्याद 353 16  
निब  
नीम 13.12  
निबु  
नीबू 189 24  
निः-  
रहित उपसर्ग सूची 1007 5  
निःशत्रुता  
शत्रुहीनता 706 3  
निःसंकोच  
संकोचहीन 846 7  
निःसंदेह  
अवश्यमेव 68.21  
निःसंदेहता  
सदेहहीनता 340 6  
निःसपत्न  
एक स्वामीय 621 26  
नि  
निषाद स्वर 459 13  
नि-  
रहित. उपसर्ग सूची 1007 5  
निअराना  
निकट आना 1093.9

निअरे  
निकट मे 31 9  
निक्रत  
अपोषण ग्रस्त 179 23  
रुद्र 767 34  
निक्रति  
अपोषण 179 3  
दरिद्रा 775 6  
निक्रति 774 51 ⇨  
नितल 985 9  
पाताल 258 9  
महा संकट 909 2  
राक्षस सूची 784 4  
लोकपाल सूची 780 7  
निओन  
निओन 86 7 ⇨  
निकट  
अदाजन 947 28  
आसन्न 67 10  
घनिष्ठ 704 27  
निकट मे 31 9  
निकट अतीत  
निकट भूत काल 36 11  
निकट आकाश  
वायु मडल 2 6  
निकट आगत  
समकक्ष आगत 1095 18  
निकट आगत  
समकक्ष आगत 1095 17  
निकट आगमन  
निकट आगमन 1093 4 ⇨  
निकट आनयन  
निकट आनयन 1053 2 ⇨  
निकट अ.ना  
निकट थाना 1093 9 ⇨  
निकट आनीत  
निकट आनीत 1053 12 ⇨  
निकट आसन  
निकट आसन ग्रहण 1028 2  
निकट आसन ग्रहण  
निकट आसन ग्रहण 1028 2 ⇨  
निकट आसीन  
निकट आसीन 1028.11 ⇨  
निकट तटवर्ती  
निकट तटवर्ती 25 33 ⇨  
निकटता  
आसन्नता 67 2  
निकटता 31 1 ⇨  
पक्षोस 31 3  
परम्पर्यायता 426.24  
सादृश्य आभास 309 4  
निकटतापूर्ण तुम  
तू 316 18  
निकट दृष्टि  
निकट दृष्टि 282.6 ⇨  
निकट परिचक्षण  
मँडराव 1033 12

निकट पहुँचना  
समकक्ष पहुँचना 1095 9  
निकट बैठना  
निकट बैठना 1028 9 ⇨  
निकट बैठा  
निकट आसीन 1028 11  
निकट भविष्यता  
आसन्नता 67 2  
निकट भविष्य मे  
निकट भविष्य मे 36 35 ⇨  
निकट भूत काल  
निकट भूत काल 36 11 ⇨  
निकट भूत काल में  
निकट भूत काल मे 36 31 ⇨  
निकट भूत कालीन  
निकट भूत कालीन 36 19 ⇨  
निकट में  
निकट मे 31 9 ⇨  
निकटवर्ती  
निकटवर्ती 31 7  
निकटवर्ती खेत  
निकटवर्ती खेत 551 4 ⇨  
निकट शीट  
क्लोजअप 472 18  
निकट संबंधी  
परदा निषिद्ध सबधी 591 6  
स्वजन 725 1  
निकटसात्र  
आसन्न 67 10  
निकटस्थ  
निकटस्थ 31 7 ⇨  
निकटस्थ तट  
निकटस्थ तट 25 15 ⇨  
निकट होना  
निकट होना 31 5 ⇨  
निकटासन्नता  
आसन्नता 67 2  
निकटासीन  
निकट आसीन 1028 11  
निकती  
स्वर्ण तराजू 962 15  
निकम्मा [निकम्मी]  
अनुपयोगी 525 8  
अप्रयत्नशील 490 9  
अयोग्य 304 6  
निकम्पापन  
अप्रयत्न 490 1  
निकर  
कोश 630 1  
निकर 586 2 ⇨  
निकर (अँ)  
निकर 586 2  
निकर्षणा  
उत्खनन 1018 2  
निकल  
गमन 1091 1  
निर्गम 1092.1

## निकल आना

निकल आना  
प्रोद्गत होना 988 7  
निकल जाना  
त्राण पलायित होना 916 12  
निकलता [निकलती]  
उदीयमान 5 29  
निर्गमनशील 1092.16  
निकलते निकलते  
जाते जाते 1091 16  
निकलन  
गमन 1091.1  
निर्गमन 1092 2  
निकलना  
अतीत होना 63 5  
अभियान पर जाना 907 39  
अवशिष्ट होना 939 10  
आज्ञा मुक्त होना 348 5  
आदेय होना 634 20  
उत्पीर्ण होना 322 36  
उत्पन्न होना 546 8  
उत्स्रोत होना 21 28  
उदित होना 5 26  
उद्भिद होना 117 12  
उन्मुक्त होना 1015.6  
उबरना 1030 15  
कल्पना में आना 308 11  
खोजा जाना 863 5  
जाना 1091 6  
निकलना 1092.11 ⇨  
प्रकट होना 822 17  
प्रक्षिप्त होना 1052 13  
प्रोद्गत होना 988 7  
बाहर होना 999 9  
बिकना 661.19  
यान प्रस्थान करना 1082 28  
विलग होना 1011.3  
विस्थापित होना 1036 11  
व्यतीत होना 74 2  
समाधान होना 334 9  
निकला [निकली]  
अंकुरित 117 18  
अवतारित 1080.42  
उत्पन्न 546 9  
उदित 5 28  
उन्मुक्त 548 57  
उबरा [उबरी] 1030 25  
घुपघाप पलायित 916 20  
निर्गमित 1092 15  
निष्कर्षित 83 14  
प्रक्षेपित 1052 19  
प्रोद्गत 988 10  
विस्थापित 1036.13  
निकलाई  
निष्कर्षण 83 1  
निष्कासन 1092.10  
निकलापन  
प्रोद्गतता 988 2

निकलाव  
उद्भेदन 117 4  
गमन 1091 1  
निर्गम 1092.1  
निकलावा  
निष्कासन 1092.10  
निकष  
कसौटीकार 566.8  
कसौटी पत्थर 566 9  
समीक्षा मापदंड 398 4  
सान. पत्थर 559 35  
निकषण  
कसौटी कर्म 566 7  
खुरघाई 542 7  
घर्षण 541 1  
सान घराई 564 7  
निकसन  
निर्गमन 1092 2  
निकसा [निकसी]  
निर्गमित 1092.15  
निकाई  
उत्तमता 313.1  
निराई 548.31  
सज्जनता 817 1  
सुंदरता 157 1  
सुडीलता 155.2  
निकाना  
निराना 548 45  
निकाय  
निकाय 692.7 ⇨  
भवन 602 7  
लक्ष्य केंद्र 931.7  
समुदाय 687.1  
निकाल  
निष्कासन 1092.10  
पैतरा तोड़ 486 21  
संकट मोचक युक्ति 910 2  
निकालना  
आविष्कार करना 307.9  
उगाही करना 634 17  
उत्पादन करना 546 7  
घ्युत करना 653 27  
छीनना 635 13  
जाति निर्वासित करना 870 19  
निकालना 1092.12 ⇨  
निर्वासित करना 870.17  
निष्कर्षित करना 83 11  
प्रकाशित करना 420.8  
प्रवर्तित करना 693 7  
बाहर करना 999 10  
बेचना 661 20  
रिक्त करना 1005.6  
विस्थापित करना 1036 12  
संकट दूर करना 910.6  
निकालने वाला  
उबारने वाला 1030 27  
निष्कासक 1092.19

निकाल भगाना  
अपाङ्कत करना 862.6  
निकाल भगाना 1092.14 ⇨  
निकाल भगा ले जाना  
अपाङ्कत करना 862 6  
निकाला  
जाति निर्वासन 870.11  
निर्वासन 870 8  
निष्कासन 1092.10  
निकाला [निकाली]  
उत्खनित 1018 16  
उबारा [उबारी] 1030 26  
जाति निर्वासित 870.28  
निष्कासित 1092 18  
निकालू  
निष्कासक 1092 19  
निकास  
उत्स्रोत 21.1  
गमन 1091.1  
निर्गम 1092.1  
निर्गम मार्ग 1092.3  
पैतरा तोड़ 486 21  
प्रेषण 1054 1  
संकट मोचक युक्ति 910 2  
निकास (कथक)  
मंच प्रवेश 488.26  
निकासना  
निकालना 1092.12  
निकासशील  
निर्गमनशील 1092.16  
निकासी  
खपत 644 6  
निर्गम मार्ग 1092.3  
निर्गम संकेत सूची 1092 20  
प्रेषण 1054 1  
विक्रय 661 1  
निकाह  
इसलाही विवाह 799 3  
विवाह 799.1  
निकाहबंदी  
विवाहन 799 6  
निकाहा  
विवाहित 799 64  
निकाही  
विवाहिता 799.65  
स्वयंवरा 799 19  
निकियाना  
लुंघित करना 1017.6  
निकुंज  
वृक्ष कुंज 12.18  
निकुंभ  
असुर सूची 783.8  
दैत्य सूची 783 19  
राक्षस सूची 784.4  
निकुर  
निकर 586.2  
निकूट  
अधम 840.4

निकूट 314.5 ⇨  
निकूट अनिकूट  
उत्तम अनुत्तम 313.10  
निकूट कार्य  
निकूट कार्य 508.5 ⇨  
निकूटतम  
निकूटतम 314.7 ⇨  
निकूटतमता  
निकूटतमता 314.3 ⇨  
निकूटतर  
निकूटतर 314.6 ⇨  
निकूटतरता  
निकूटतरता 314.2 ⇨  
निकूटता  
अधमता 840.1  
निकूटता 314.1 ⇨  
निकेत  
गृह 601.1  
भवन 602.7  
निकेतन  
गृह 601 1  
निकोटीन  
निकोटीन 213.2 ⇨  
निकोटीन (अँ)  
निकोटीन 213 2  
निकोनी  
निराई 548 31  
निकषण  
वीणा ध्वनि 296 14  
निक्षिप्त  
संघित 645 9  
निक्षेप  
जमा राशि 631.14  
निक्षेपण  
प्रणोदन 1051 1  
निक्षेपित  
प्रक्षेपित 1052 19  
निक्षेपी  
जमा कर्ता 631 15  
निक्षंड  
अर्थ बिंदु 971.3  
मध्य 996 1  
निक्षद्दू  
अप्रयत्नशील 490.9  
अयोग्य 304.6  
आवारागर्द 1090.43  
निक्षद  
अधम 840.4  
अनुपयोगी 525.8  
अप्रयत्नशील 490.9  
अयोग्य 304.6  
निकूट 314.5  
निक्षनन  
खनन 1018.1  
निक्षनन (गकाई) 1018.3  
निक्षनन (गकाई)  
निक्षनन (गकाई) 1018.3 ⇨

<b>निखनित</b>	<b>निगब</b>	<b>निगाली</b>	वर्ग आकृति 969 6
निखनित 1018.17 ⇨	रटंत 356 4	निगाली 213.13 ⇨	सम घन 977 18
<b>निखनित करना</b>	<b>निगबन</b>	<b>निगाह</b>	समवर्तुल पिंड 976 5
खोद कर गाड़ना 1018.13	कथन 430.1	अनुपेक्षा 184 2	<b>निघरघट</b>
<b>निखरना</b>	सस्वर वाचन 399.6	दृष्टि 282 1	परिवारहीन 726 15
युवा होना 231 11	<b>निगम</b>	परीक्षा 322 11	<b>निघरा [निघरी]</b>
रंग प्रस्फुटित होना 291 9	कंपनी 692 4	भाँप 301 14	अनाथ 719.5
विशद होना 822.14	तर्क शास्त्र 325 17	विचार कोण 330 2	परिवारहीन 726 15
<b>निखरा [निखरी]</b>	नगर निगम 892 8	विवेक 301 7	<b>निघाकार</b>
उज्ज्वल 218 37	निर्णय 328 4	<b>निगाह नीची करना</b>	समवर्तुलाकार 976.17
प्रस्फुटित 119 10	मार्ग 1063 1	लज्जित होना 845 6	<b>निघात</b>
भार्जित 218.36	लिमिटेड कंपनी 692 5	<b>निगाह बदलना</b>	प्रहार 918 1
विशद 822 21	वेद 740 22	निष्ठा बदलना 827 10	<b>निघाती</b>
स्वच्छ 218 33	संस्था 692 1	<b>निगाहें बचा कर देखना</b>	प्रहारक 918 31
<b>निखरापन</b>	<b>निगम आगम</b>	तिरछी वितवन से देखना 284 36	<b>निघय</b>
परिष्कृतता 537 3	धर्म ग्रंथ 738 1	<b>निगीर्ण</b>	साराशिकरण 667 4
<b>निखरी जवानी</b>	<b>निगमन</b>	निगला [निगली] 181 66	समूह 690 1
यौवन 231 6	अनुलाप 435 9	<b>निगु</b>	<b>निघला [निघली]</b>
<b>निखर्व</b>	निगमन 325 13 ⇨	अंतरिंद्रिय 268 4	अधोलिखित 430 22
दस अरब 948 80	<b>निगमागम</b>	<b>निगुरा [निगुरी]</b>	नितलीय 985 17
<b>निखात</b>	धर्म ग्रंथ 738.1	अदीक्षित 321 39	<b>निघला ओष्ठ</b>
खनित 1018.15	वेद 740 22	स्वशिक्षित 321 48	निघला ओष्ठ 143 3 ⇨
दृढ़ आधारित 1019 21	<b>निगमी</b>	<b>निगुड़</b>	<b>निघला कपड़ा</b>
निखनित 1018 17	वेदज्ञ 761 29	गुप्त 824 20	पगड़ी तहपेच 584 24
<b>निखार</b>	<b>निगमीय</b>	गृह्य विद्या विषयक 758 38	<b>निघला जबड़ा</b>
उन्नति 534 1	नगरीय 620 23	दुर्बोध्य 519.23	निघला जबड़ा 140 19 ⇨
परिष्कार 537.1	संस्थानीय 692 31	रहस्यपूर्ण 823 13	<b>निघला तल</b>
रंग प्रस्फुटन 291 3	<b>निगरा [निगरी]</b>	<b>निगोटिव</b>	नितल 985 9
विकास 534 4	अभिहित 1008 30	निगोटिव 405 10 ⇨	<b>निघलाया [निघलाई]</b>
विशदता 822 2	<b>निगरान</b>	<b>निगोटिव (अँ)</b>	निरचल 1038 8
स्वच्छता 218 1	सरसक 908 26	निगोटिव 405.10	<b>निघला हिस्सा</b>
<b>निखारना</b>	<b>निगरानी</b>	फ़ोटो फिल्म 405 21	निम्न भाग 983 3
परिष्कार करना 537 7	इनविजिलेशन 322 18	<b>निगोड़ा</b>	<b>निघली खपरैल</b>
भार्जित करना 218 25	पर्यवेक्षण 284 21	पत्नीपुत्रहीन पुरुष 236 19	निघली खपरैल 599 34 ⇨
स्वच्छ करना 218 24	पहरेदारी 908 8	<b>निगोड़ा [निगोड़ी]</b>	<b>निघाई</b>
<b>निखारा</b>	संरक्षा 908 3	अनाथ 719 5	अपकाष्ठा 535 3
गुड़ कड़ाह 682 5	<b>निगल जाना</b>	अनुपयोगी 525 8	अल्पोच्चता 982 2
<b>निखालिस</b>	पूरा खा जाना 181 34	अयोग्य 304 6	नतोदरता 989 1
अभिहित 1008 30	<b>निगलन</b>	अम्लबनहीन 649 10	निम्नता 983 1
विशुद्ध 219 7	निगलन 181.24 ⇨	दुर्भाग्यशाली 260.34	<b>निघान</b>
<b>निखिल</b>	पूर्ण भक्षण 181 11	<b>निगोड़ी</b>	दलान 989 2
ब्रह्मांड 11	<b>निगलन आहार</b>	पुत्रहीन विधवा 804 17	निम्नता 983 1
सर्व 940.8	भोज्यम 186 6	<b>निग्रह</b>	<b>निधित</b>
<b>निखिलता</b>	<b>निगलना</b>	निवृत्ति 503 1	संराशित 667 16
सर्वता 940.1	ग्रहण ग्रस्त करना 6 6	सयम 808 8	<b>निघुड़ना</b>
<b>निघुटना</b>	<b>निगला [निगली]</b>	<b>निग्रहण</b>	शक्ति नाश होना 488 6
समाप्त होना 942 12	निगला [निगली] 181 66 ⇨	दमन 911 4	<b>निघुड़ा [निघुड़ी]</b>
<b>निखोट</b>	पूर्ण भक्षित 181 63	<b>निग्रहहीनता</b>	चुरा [चुरी] 181 68
अगुप्तता: 822 34	<b>निगलू</b>	असंयम 809 3	<b>निष्कर्षित</b> 83 14
अभिहित 1008 30	पूर्ण भक्षक 181.54	<b>निग्रहित</b>	रसहीन 84 18
साहसपूर्वक 394 18	<b>निगलबानी</b>	संयमित 808 16	<b>निघुड़ाई</b>
<b>निगड</b>	पर्यवेक्षण 284.21	<b>निग्रही</b>	निघुड़ाई 220 14 ⇨
बेकी 868.25	संरक्षा 908 3	दंड दाता 870 23	निष्कर्षण 83 1
<b>निगडन</b>	<b>निगार</b>	सयमी 808 17	<b>निघुड़ाई (बे.)</b>
बेकी बंदी 868.8	उत्कीर्ण कृति 406.24	<b>निघंदु</b>	शुष्कन 89.2
<b>निगडित</b>	<b>निगारी</b>	पर्याय कोश 446 13	<b>निघुड़ा पानी</b>
बेकीबंद 868.39	उत्कीर्णन 406 19	<b>निघ</b>	निघुड़ा पानी 220.15 ⇨
		गोल पिंड 977 1	

## निचुलक

### निचुलक

उत्तरीय 585 7  
वक्ष आवरण 585 6

### निघोड़

निघुड़ाई 220 14  
निष्कर्ष 84 1  
सार 84 16  
साराश 449 12

### निघोड़ना

निघोड़ना 220 36 ⇨  
निष्काषित करना 83 11  
शोधन करना 627 15

### निघोल

वक्ष आवरण 585 6

### निघोहीं [निघोही]

निम्न 983 5

### निघोड़े

निम्नत 983 6

### निघावर

बलि वस्तु 754 2  
वारफेर 710 12

### निघावर करना

बलि करना 754 18  
वारफेर करना 710 19

### निघावर जाना

वारफेर करना 710 19

### निघावर होना

आत्मबलि देना 754 19  
सम्नोहित होना 367 4

### निघावरि

हिंसक बलि 754 4

### निघोड़

कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8

### निज

निजी (संपत्ति) 624 16  
मेरा [मेरी] 316 27  
वैयक्तिक 689 3

### निज का

मेरा [मेरी] 316 27

### निजता

असामान्यता 312 1  
वैयक्तिकता 689 2  
व्यक्तित्व 836 1  
स्वजन भावना 725 2  
स्वभाव 836 4

### निजत्वहीनता

व्यक्तित्वहीनता 836 2

### निजात

मोक्ष 257 1  
संकट मोचन 910 1

### निजाम

प्रबंधक 655 9  
राज्यपाल 891 3  
व्यवस्था 893 5  
शासक 890 5

### निजाम [बैशम]

रज [रनी] पद्माम (कस्तूरी) 882 10

### निजामत

शासन 890.1

### निजी

निजी (संपत्ति) 624 16  
मेरा [मेरी] 316 27  
वैयक्तिक 689 3

### निजी (संपत्ति)

निजी (संपत्ति) 624 16 ⇨

### निजी कमरा

स्टेट रूम 1073 39

### निजीकरण

विराष्ट्रीयकरण 635 4

### निजीकृत

विराष्ट्रीयकृत 635 20

### निजी परिचारक

परिचारक 651 28

### निजी मार्ग

निजी मार्ग 1063 7 ⇨

### निजी विशेषता

व्यक्तित्व 836 1

### निजी व्यय

निजी व्यय 644 5 ⇨

### निजी संपत्ति

निजी संपत्ति 624 14 ⇨

### निजी सधिय

निजी सधिय 652 24 ⇨

### निजी सङ्क

निजी मार्ग 1063 7

### निजी सहायक

आशुलेखक 412 15

### निजी सुजीयिता

आत्मसुजीयिता 170 3

### निजी सेवक

परिचारक 651 28

### निजी सेविका

परिचारिका 651 29

### निजू

निजी (संपत्ति) 624 16

मेरा [मेरी] 316 27

वैयक्तिक 689 3

### निजोरा [निजोरी]

अबलिष्ठ 159 12

### निम्नरना

वर्षा होना 54 17

### निर्दिग (अँ)

बुनाई विधि सूची 576 3

स्वेटर बुनाबट 576 10

### निर्दिग सलाह्यो

स्वेटर सलाई 562 19

### निर्दिग स्टिच

निर्दिग स्टिच 572.13 ⇨

### निर्दिग स्टिच (अँ)

निर्दिग स्टिच 572 13

### निर्दिग स्टिच सूची

निर्दिग स्टिच सूची 572 14 ⇨

### निठल्ला [निठल्ली]

अप्रयत्नशील 490.9

आजीविकाहीन 649 11

### निठल्लापन

अप्रयत्न 490.1

आजीविकाहीनता 649 3

### निठल्लू

अप्रयत्नशील 490 9  
आजीविकाहीन 649 11

### निदुर

कठोरहृदय 835 11  
कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8

### निदुरता

निर्दयता 835 2

### निटीर

अनुपयुक्त स्थान 70 6  
दुर्दशा 627 8

### निडर

साहसी 394 13

### निडीन

ग्लाइडिंग 1081 21

### निढाल

बहुत थका 492 16  
स्फूर्तिहीन 492 14

### नितंब

नितंब 148 13 ⇨

### नितंब कूप

कूल्हा गड़्ढा 148 12

### नितंबीय

नितंबीय 148 17 ⇨

### नित नित

प्रति दिन 1049 20

### नित नियम

नित्य कर्म 504 8

### नित प्रति

प्रति दिन 1049 20

### नितराम

अवश्यमेव उक्ति सूची 68 23

निम्नत 983 6

प्रत्याशातीत 944 9

संकल्पपूर्वक 500 16

### नितल

अभ्यतर 985 13

नितल 985 9 ⇨

### नितल: गड़्ढा

नितल गड़्ढा 985.12 ⇨

### नितल में

नितल में 985.20 ⇨

### नितल स्थान

अभ्यतर 985.13

### नितलीय

नितलीय 985.17 ⇨

### नितलीयता

नितलीयता 985.8 ⇨

### नितांत

अत्यधिक 944 7

अवश्यमेव 68 21

छोरस्थ 1000 15

नितांत अंतिम 995 15

पूर्णांशत 940 15

### नितांत अंत

नितांत अंत 995.2 ⇨

### नितांत अंतिम

नितांत अंतिम 995.15 ⇨

### नितांत एकाकी

नितांत एकाकी 697.15 ⇨

### नित्य

अनश्वर 37 9

अनश्वर 37 9

अविराम 1049 10

धैर्यशील 394 15

नियमित 71 10

प्रति दिन 1049 20

शाश्वत 37 7

शिव 767 1

हमेशा 1049 17

### नित्य कर्म

नित्य कर्म 504 8 ⇨

### नित्य क्रम

रुटीन 514 6

### नित्यगति

वायु 85 1

### नित्यधर्या

नित्य कर्म 504 8

### नित्यतः

नित्यमितत 71 23

### नित्यता

अनश्वरता 37 3

शाश्वतता 37 1

### नित्य नियम

अनपवाद 879 13

ईश्वरीय विधान 878 19

दैनिक गतिविधि 502 3

घर्म कर्म 747 1

### नित्य प्रति

प्रति दिन 1049 20

### नित्यधीवना

द्वीपदी 771 64

### नित्यशः

हमेशा 1049 17

### नित्य सत्य

शाश्वत सत्य 820 6

### नित्याचार

नित्य कर्म 504 8

### निथरन

निथरन 1031.14 ⇨

निथराई 1009.11

### निथरना

निथरना 1031.23 ⇨

### निथरा [निथरी]

निथरा [निथरी] 1031.33 ⇨

### निथराई

निथराई 1009.11 ⇨

### निथरा पानी

निथरा 526 12

### निथरा पानी: नीचे बैठी वस्तु

निथरा 526.12

**निथरा मल**  
निथार 526 12  
**निथरी वस्तु**  
निथार 526 12  
**निथार**  
निथरन 1031 14  
निथार 526 12 ⇨  
**निदरना**  
अपमानित करना 855 6  
**निदर्श**  
निदर्श 328.3 ⇨  
प्रमाण 327 1  
**निदर्शक**  
प्रदर्शक 285 44  
**निदर्शन**  
उदाहरण 309 6  
प्रदर्शन 285 1  
**निदर्शनी**  
निदेशन पुस्तक 446 17  
**निदर्शित**  
प्रमाणित 327 9  
**निदाघ**  
श्रीष्म अनुभूति 53 7  
श्रीष्म काल 53 6  
**निदान**  
अतत 995 17  
इस लिए 507 10  
उपपत्ति 328 1  
कारण 507 3  
रोग निदान 171 2  
**निदानीय मृत्यु**  
निदानीय मृत्यु 249.3 ⇨  
**निदिष्ट**  
आज्ञापित 347 14  
**निदेश**  
आज्ञा 347 1  
निदेश 347 2 ⇨  
सूत्र वाक्य 424 18  
**निदेशक**  
निदेशक 347.17 ⇨  
निदेशक 652 22 ⇨  
मार्ग प्रदर्शक 1098 4  
**निदेशक मंडल**  
संचालन समिति 692 25  
**निदेश देना**  
निदेशन करना 347 9  
**निदेशन**  
निदेशन 347 3 ⇨  
मार्ग प्रदर्शन 1098.3  
**निदेशन करना**  
निदेशन करना 347.9 ⇨  
**निदेशन पुस्तक**  
निदेशन पुस्तक 446.17 ⇨  
**निदेशनी**  
निदेशन पुस्तक 446 17  
**निदेश पालन**  
आज्ञा पालन 347.6

**निदेशालय**  
निदेशालय 654.9 ⇨  
**निदेशिका**  
इडैक्स 993 8  
निदेशन पुस्तक 446 7  
प्रक्रिया पुस्तक 446 22  
**निदेशित**  
निदेशित 347 16 ⇨  
**निदेशिनी**  
दिशा 29 1  
**निदेश्टा**  
निदेशक 347 17  
**निद्रण**  
निद्रागम 266 2  
**निद्रा**  
निद्रा 266 1 ⇨  
**निद्रा आगमन**  
निद्रागम 266 2  
**निद्रा इच्छा**  
निद्रा इच्छा 266 6 ⇨  
**निद्राकारी**  
निद्राकारी 266 14 ⇨  
**निद्रागम**  
निद्रागम 266 2 ⇨  
**निद्रा गीत**  
लोरी 457 42  
**निद्रा: झोंका**  
तद्रा 266 8  
**निद्राटक**  
सुप्ताटक 267 5  
**निद्राटन**  
सुप्ताटन 267 4  
**निद्रा त्याग**  
जागरण 265 2  
**निद्राभंग**  
चेतना लाभ 263 6  
**निद्रामग्न**  
निद्रित 266 13  
**निद्रानु**  
तंद्रिल 266 16  
निद्राशील 266 15  
**निद्राशाला**  
रेन बसेरा 618.16  
**निद्राशील**  
निद्राशील 266.15 ⇨  
**निद्राहीन**  
निद्राहीन 265.9 ⇨  
**निद्राहीनता**  
निद्राहीनता 265.4 ⇨  
**निद्रित**  
निद्रित 266.13 ⇨  
**निद्रिल**  
तंद्रिल 266 16  
निद्राकारी 266.14  
निद्राशील 266.15  
**निधक**  
अनिधिदत: 880.15  
संकोचहीनत: 848.9

साहसपूर्वक 394 18  
**निधन**  
अत 995 1  
गीत अतिम भाग 451 25  
परिदार 726 1  
मृत्यु 249 1  
विलयन 21 26  
**निधन तिथि मेला**  
उर्स 57 49  
**निधान**  
आधारण 1019 5  
भंडार 670 3  
विलय स्थल 21 27  
**निधि**  
उत्तमता उपमान सूची 313 4  
कोश 630 1  
निधि 628 5 ⇨  
नी उपमान सूची 948 34  
समुद्र 24 1  
**निधीश्वर**  
कुबेर 779 4  
**निर्नंभु**  
मृत्यु इच्छुक 249 28  
**निनाद**  
गुजार 298 3  
घोर ध्वनि 294 6  
ध्वनि 294 1  
प्रतिध्वनि 294 4  
**निनादन**  
ध्वनन 294 2  
**निनादित**  
ध्वनित 294 21  
प्रतिध्वनित 294 23  
वादित 461.105  
स्वर सामजस्यपूर्ण 460 45  
**निनादिता**  
स्वर सामजस्य 460 15  
**निनादी**  
ध्वनिकारी 294.22  
प्रतिध्वनिकारी 294 24  
**निनादी [भिन्नादिनी]**  
वादक 461 2  
**निनान**  
नितात अंतिम 995.15  
**निनावी**  
मुंह- छाला 167 10  
**निनीरा**  
ननिहाल 801 6  
**निन्ने मुंह**  
अनखाए 181.70  
प्रभात मे 47 21  
**निन्यानन्ने**  
अल्पतर 942.14  
**निन्याँ**  
अनखाए 181 70  
**निपजना**  
उत्पन्न होना 546.8  
मूल बनना 117 13

**निपट**  
अत्यधिक 944 7  
अभिहित 1008 30  
एकमात्र 946 20  
पूर्णांशत 940 15  
मात्र 946 19  
शत प्रति शत 947 32  
**निपट अकेला**  
नितात एकाकी 697 15  
**निपट एकाकी**  
नितात एकाकी 697 15  
**निपटना**  
निवृत्त होना 503 6  
समाधान होना 334 9  
**निपटा [निपटी]**  
निवृत्त 503 9  
समाधान कृत 877 24  
समाधानित 334 14  
समाप्त (कार्य) 522.4  
**निपटाना**  
कार्य समापन करना 522 3  
कार्यान्वयन करना 505 12  
न्याय करना 874 32  
विवाद समाधान करना 877 20  
**निपटाने वाला**  
समाधान कर्ता 877 25  
**निपटारना**  
समाधान करना 334.10  
**निपटारा**  
निवृत्ति 503.1  
नैयायिक निपटारा 877 11  
भुगतान 634 3  
विवाद समाधान 877 4  
समाधान 334 6  
**निपटारा होना**  
दुबिधा मिटना 500 7  
**निपटाव**  
कार्य समाप्ति 522 1  
**निपतन**  
अधोगमन 1031 5  
**निपतित होना**  
पतन होना 1031 15  
**निपलाश**  
पल्लवहीन 115 14  
पल्लवहीन वृक्ष 111 26  
**निपात**  
अन्य छोर 1000 4  
छापा 914 8  
तीव्र नदी 20.6  
निर्झर 21.8  
पस्ती 169.6  
विमान अवपात 1081.28  
**निपात शब्द**  
निपात शब्द 423 8 ⇨  
**निपातित**  
धराशायी 1027 22  
**निपात**  
कूप 19 3

## निपीड़न

गड़ढा 15 1  
दोहन पात्र 554 7  
पशु पानी का होज 18 16  
निपीड़न  
निष्कर्षण 83 1  
निपीत  
आपातित 207 19  
निपुण  
प्रवीण 303 22  
निपुणता  
प्रवीणता 303 8  
निपुती  
पुत्रहीन स्त्री 236.11  
निपूत  
पुत्रहीन 240 10  
निपूता [निपूती]  
पुत्रहीन 240.10  
निष्करण  
आरपार छिद्रण 271 5  
निबंध  
तर्काधार 325 7  
नप्न 452 23  
निबंध 449.15 ⇨  
बंदिश 458.20  
लेख 449 17  
शोध लेख 449.18  
संलग्नता 1010.2  
निबंधकार  
निबंधकार 448 9 ⇨  
निबंधन  
आबद्धन 1013 1  
साहित्य लेखन 448 1  
निबंधनी  
आबद्धन उपकरण 1013 7  
डोरी 570 1  
वाद्य चूँटी 461 95  
निबंध लेखक  
निबंधकार 448 9  
निबंधा  
आबद्ध कर्ता 1013 23  
निबंधी  
आबद्ध कर्ता 1013.23  
निबंधकार 448 9  
साहित्य लेखक 448 2  
निब  
निब 416.17 ⇨  
निब (अँ)  
निब 416 17  
निबकीरी  
निबोली 190 23  
निबटना  
निवृत्त होना 503 6  
समाप्त होना 942 12  
निबटा [निबटी]  
समाधानित 334 14  
निबटना  
समाधान करना 334 10

निबटाने वाला  
समाधान कर्ता 334 15  
निबटारा  
ऋण मोचन 633 8  
जय पराजय 912 7  
निवृत्ति 503.1  
विवाद समाधान 877.4  
समाधान 334 6  
समाप्ति 942 6  
निबटाव  
समाधान 334 6  
निबः टिप  
निब टिप 416.18 ⇨  
निबडना  
निवृत्त होना 503 6  
समाधान होना 334 9  
सुलझना 574 9  
निबद्ध  
अनुलग्न 1010 21  
आबद्ध 1013 22  
खचित 406 42  
लिखित 448 26  
निबद्धन  
साहित्य लेखन 448 1  
निबल  
अबलिष्ट 159 12  
निब होल्डर (अँ)  
पैन 416 11  
निबाह  
कर्तव्य पालन 895 5  
परस्पर निर्वाह 702.3  
संकट मोचन 910 1  
निबाहक  
परस्पर निर्वाहक 702 7  
निबाहना  
कर्तव्य पालन करना 895 8  
कार्यान्वयन करना 505 12  
नीति पालना 517.9  
परस्पर निर्वाह करना 702 5  
विचलित न होना 500 8  
विवाद समाधान करना 877.20  
सद्व्यवहार करना 830 4  
निबाहने वाला  
परस्पर निर्वाहक 702 7  
निबिडता  
अगम्यता 519 9  
निबुआ  
नीबू 189.24  
निबेडना  
कार्यान्वयन करना 505 12  
समाधान करना 334 10  
निबेडा  
कार्य समाप्ति 522.1  
संकट मोचन 910.1  
सुलझन 574 5  
निबोध  
सीख 332.6

निबोली  
निबोली 190.23 ⇨  
निबोली  
खाद्य फल सूची 190.2  
निबध  
घनिष्ठ होना 704 18  
निवृत्त होना 503 6  
परस्पर निर्वाह होना 703 8  
निभाना  
कर्तव्य पालन करना 895 8  
दायित्व पालन करना 895 7  
निष्ठा निभाना 826 8  
परस्पर निर्वाह करना 702.5  
विचलित न होना 500 8  
निभाने वाला  
परस्पर निर्वाहक 702 7  
निभाव  
परस्पर निर्वाह 702.3  
परस्पर निर्वाह 703 3  
व्यवहार 828 1  
निभूत  
मरा [भरी] 1004 12  
निभंत्रक  
निभंत्रण दाता 1056 9  
निभंत्रण  
निभंत्रण 1056.1 ⇨  
निभंत्रण (दे.)  
आवाहन 1055 1  
निभंत्रण अभाव  
अनिभंत्रण 1056 4  
निभंत्रण दाता  
निभंत्रण दाता 1056.9 ⇨  
निभंत्रण देना  
निभंत्रित करना 1056 5  
भोज के लिए बुलाना 183 34  
निभंत्रण पत्र  
निभंत्रण पत्र 1056 2 ⇨  
निभंत्रण पत्र भेजना  
निभंत्रण भेजना 1056 6  
निभंत्रण पत्रिका  
निभंत्रण पत्र 1056.2  
निभंत्रण भेजना  
निभंत्रण भेजना 1056 6 ⇨  
निभंत्रणहीनता  
अनिभंत्रण 1056 4  
निभंत्रना  
निभंत्रित करना 1056 5  
निभंत्रित  
निभंत्रित 1056.7 ⇨  
निभंत्रित करना  
निभंत्रित करना 1056.5 ⇨  
निभग्ग  
दुबा [दुबी] 1031.31  
तल्लीन 331 14  
बाङ्ग्रस्त 22.6  
समाधिस्थ 755.9  
निभग्गता  
तल्लीनता 331 6

समाधिस्थता 755.4  
निभग्ग  
दुबकी 1031.10  
निभग्गन  
दुब 1031 9  
निभग्गना  
दुबकी लगाना 1031.21  
निभग्गिका  
दुबकी यान 1072 38  
निभग्गित  
दुबा [दुबी] 1031.31  
बाङ्ग्रस्त 22 6  
निभग्गित होना  
निधरना 1031 23  
निभटना  
निवृत्त होना 503.6  
निभद  
मंद स्वर 299 6  
निभान  
जलाशय 18.2  
दलान 989 2  
मानदंड 957 5  
निभाना [निभानी]  
दलानयुक्त 989 10  
निभ 983 5  
निभित्त  
कर्मफल 504.10  
कारण 507 3  
कारणत 507 7  
प्रयोजनत 508 11  
बहाना (मकर) 495 4  
शकुन 262.1  
निभित्तता  
कारणता 507.2  
निभित्त बध  
निभित्त हत्या 251 9  
निभित्तविद  
शकुनज्ञ 262.17  
निभित्त से  
कारणतः 507 7  
निभित्त हत्या  
निभित्त हत्या 251.9 ⇨  
निभित्तन  
कारणतः 507 7  
निभिष  
निभिष 50.13 ⇨  
मुकुलन 120 1  
निभिषन  
मुकुलन 120.1  
निभिषित  
मुकुलित 120.8  
निभीलन  
मुकुलन 120.1  
निभीला  
अनवलोकन 284.2  
निभीलिका  
मुकुलन 120 1

निमीलित  
मुकुलित 120.8  
निमीलिततः  
मुकुलिततः 120.13  
निर्मूला [निर्मूली]  
निरुत्तर 335.10  
मीन 429.22  
वाघारुद्ध 429 27  
निमेष  
निमिष 50 13  
पलक 141 13  
निमेषक  
पलक 141 13  
निमेषण  
आँख मारना कर्म 284 7  
मुकुलन 120 1  
निमेषित  
मुकुलित 120 8  
निमेषिततः  
मुकुलिततः 120 13  
निम्न  
अकुलीन 728 16  
गहराई 984 1  
निकृष्ट 314 5  
निम्न 983 5 ⇨  
निम्न कुल  
निम्न कुल 728 8 ⇨  
निम्न कुलीनता  
अकुलीनता 728 9  
निम्न कुलोद्भवता  
अकुलीनता 728 9  
निम्नग  
अधोगामी 1031 28  
ढलानयुक्त 989.10  
निम्नगत  
अधोगत 1031 27  
अवनत 535 5  
निम्नगामी [निम्नगामिनी]  
अधोगामी 1031 28  
निम्न जन  
निम्न जन 728.11 ⇨  
निम्नताः  
निम्नतः 983.6 ⇨  
निम्न तट  
निम्न तट 25 23 ⇨  
निम्न तट सूची  
निम्न तट सूची 25.24 ⇨  
निम्नतम  
निकृष्टतम 314.7  
निम्नतर  
निकृष्टतर 314.6  
निम्न तल  
नितल 985 9  
निम्नता  
निम्नता 983.1 ⇨  
निम्नताः उपमान सूची  
निम्नताः उपमान सूची 983.7 ⇨

निम्न दाब क्षेत्र  
निम्न दाब क्षेत्र 51 10 ⇨  
निम्न दिशा  
निम्न दिशा 983.2 ⇨  
निम्न बिंदु  
निम्न बिंदु 983 4 ⇨  
निम्न भाग  
निम्न भाग 983.3 ⇨  
निम्न भाटा  
निम्न भाटा 1040 28 ⇨  
निम्न मध्यम वर्ग  
निम्न मध्यम वर्ग 688 12 ⇨  
निम्न रक्तघाप  
अल्प रुधिर घाप 131 5  
निम्न रेखा  
आधार भुजा 968 30  
निम्न लिखित  
अधोलिखित 430 22  
निम्न लिखितता  
अधोलिखितता 430 7  
निम्नलोच  
सूर्यास्त 5 11  
निम्नलोधा  
अपसरा सूची 782 3  
निम्न वंश  
निम्न कुल 728 8  
निम्न वंशीय  
अकुलीन 728 16  
निम्न वर्ण  
निम्न वर्ण 731 9 ⇨  
निम्न वर्णीय  
कम नस्ल का 243 19  
निम्न वर्णीय 731.33 ⇨  
निम्नवित  
निम्नवित 625 9 ⇨  
निम्नवितता  
निम्नवितता 625.5 ⇨  
निम्न सदन  
लोकसभा 889 4  
निम्न स्तरीय  
निकृष्ट 314 5  
निम्न स्तरीयता  
निकृष्टतमता 314 3  
निम्नस्थ  
निम्न 983 5  
निम्नांकित  
अधोलिखित 430 22  
निम्नोक्त  
अधोलिखित 430 22  
निम्नोक्तता  
अधोलिखितता 430 7  
नियंता  
कर्णधार 1080 19  
घालक 1046 24  
दंड दाता 870 23  
दिशा निर्धारक 29 24  
नियंत्रक 899 12  
नियंत्रक 899 12

नियत कर्ता 68 17  
प्रबधक 655 9  
विष्णु 768 1  
शासक 890 5  
सचालक 655 16  
सारथी 1079 10  
नियंत्रक  
दिशा निर्धारक 29 24  
नियंत्रक 899 12 ⇨  
निषेध कर्ता 880 11  
प्रबधक 655 9  
वेग नियामक 1043 16  
शासक 890 5  
नियंत्रण  
कर्ण धारण 1080 6  
नियंत्रण 899 10 ⇨  
नियंत्रण कर्म 899 11  
निषेध 880 1  
प्रबध 655 5  
सयम 808 8  
नियंत्रण उपमान सूची  
नियंत्रण उपमान सूची 899 27 ⇨  
नियंत्रण कक्ष  
कट्रोल टावर 1069 21  
नियंत्रण कर्ता  
नियंत्रक 899 12  
नियंत्रण कर्म  
नियंत्रण कर्म 899 11 ⇨  
नियंत्रण न रहना  
नियंत्रण न होना 900 4  
नियंत्रण न होना  
नियंत्रण न होना 900.4 ⇨  
नियंत्रण मे रहना  
सयम पालना 808 11  
नियंत्रण मे लाना  
नियंत्रित करना 899 20  
नियंत्रण मे होना  
वशाधीन होना 901 5  
नियंत्रणहीन  
नियंत्रणहीन 900.8 ⇨  
निरकुश 881 40  
मदोन्मत्त 211 15  
नियंत्रणहीनता  
नियंत्रणहीनता 900 2 ⇨  
निरकुश तत्र 881 22  
नियंत्रित  
नियंत्रित 899 24 ⇨  
प्रबधित 655.23  
स्थिरचित्त 355 6  
नियंत्रित करना  
नियंत्रित करना 899 20 ⇨  
नियंत्रिततः  
नियंत्रिततः 899.26 ⇨  
नियंत्रितता  
स्थिरचित्तता 355 2  
नियंत्रित न होना  
नियंत्रण न होना 900 4

नियंत्रित वेग  
नियंत्रित वेग 1043.2 ⇨  
नियत  
तय (सौदा) 658 14  
नियत 68 16 ⇨  
नियुक्त 653 32  
निर्धारित 328 14  
प्रारब्धाधीन 260 27  
मात्रा मे नियत 946 17  
ससख्य 942 22  
नियत करना  
नियत करना 68.12 ⇨  
नियत कर्ता  
नियत कर्ता 68 17 ⇨  
नियत काल  
नियत काल 39 1 ⇨  
नियत कालिकता  
सावधिकता 39 2  
नियत कालीनता  
सावधिकता 39 2  
नियतता  
नियतता 68 8 ⇨  
नियत दिन  
नियत दिन 39 3 ⇨  
नियतन  
नियंत्रण कर्म 899 11  
निर्धारण 328 6  
नियत मात्रा  
इतनापन 946 2  
नियत मात्रा 946 4 ⇨  
नियत लागत  
नियत लागत 644.9 ⇨  
नियतात्मा  
शिव 767 1  
सयमी 808 17  
नियति  
नियतता 68 8  
प्रारब्ध 260 1  
नियति अधीन  
प्रारब्धाधीन 260 27  
नियति अधीनता  
प्रारब्धाधीनता 260 2  
नियति अधीन होना  
प्रारब्धाधीन होना 260 20  
नियति क्रम  
भाग्य चक्र 260 15  
नियति लेख  
प्रारब्ध लेख 260.6  
नियति लेखक  
प्रारब्ध विधाता 260 7  
नियतिवश  
प्रारब्धाधीनतः 260 35  
नियतिवाद  
प्रारब्धवाद 260 4  
नियतिवादी  
प्रारब्धवादी 260 29  
नियतीय  
प्रारब्धीय 260 26

## नियतेद्वय

### नियतेद्वय

सयमी 808 17

### नियम

अनपवाद 879 13  
अनुबध 339 1  
आवृत्ति 71 1  
कार्य विधि 514 1  
कैनन 739 9  
नियत्रण 899 10  
नियम 879 1 ⇨  
योगांग सूची 756 14  
लोक व्यवहार नियम 878 2  
विधि (कानून) 878 1  
शर्त 339 11  
सयम 808 8  
सिद्धांत 343 9  
सूत्र वाक्य 424 18

### नियम अपवाद

अपवाद अनपवाद 879 11

### नियम अपालन

नियम भजन 879 8

### नियम उपधारा

नियम उपधारा 879 3 ⇨

### नियम क्रानून

सविधान 878 16

### नियमतः

अपवादहीनत 879 26

नियमानुकूलत 879 24

### नियम तोङ्गना

नियम भग करना 879 16

### नियमः धारा

नियम धारा 879 2 ⇨

### नियमन

अवरोधन 1047 9

दमन 911 4

नियत्रण कर्म 899 11

वशाधीनत 901 2

व्यवस्थापना 893 7

शासन कर्म 890 3

### नियमन करना

नियत्रित करना 899 20

### नियम न मानना

नियम भग करना 879 16

### नियम निष्ठा

नियम पालन 879 7

### नियम पत्र

अनुबध पत्र 339 2

शपथ पत्र 339 21

### नियम पर चलना

नियम पालन करना 879 15

### नियम पालक

नियम पालक 879 20 ⇨

### नियम पालन

नियम पालन 879 7 ⇨

### नियम पालन करना

नियम पालन करना 879 15 ⇨

### नियम पुस्तक

प्रक्रिया पुस्तक 446 22

### नियमपूर्वक

अपवादहीनत 879 26

नियत्रितत 899 26

### नियम प्रतिकूल

नियम प्रतिकूल 879 19 ⇨

### नियम प्रतिकूलता

नियम प्रतिकूलता 879 10 ⇨

### नियमबद्ध

नियमानुकूल 879 18

नियमित 879 17

### नियमबद्धता

नियमितता 879 6

नियमितता 71 2

### नियम बनाना

विधायन करना 878 24

### नियम भंग करना

नियम भंग करना 879 16 ⇨

### नियम भंजक

नियम भंजक 879 21 ⇨

### नियम भंजन

नियम भजन 879 8 ⇨

### नियम मानना

नियम पालन करना 879 15

### नियम विरुद्ध

नियम प्रतिकूल 879 19

### नियम विरुद्धता

नियम प्रतिकूलता 879 10

### नियम विरुद्ध युद्ध

नियम विरुद्ध युद्ध 907 33 ⇨

### नियम व्याख्याता

विधिज्ञ 878 13

### नियमशः

नियमितत 71 23

### नियम संगत

वैध 878 26

### नियम संगत युद्ध

नियम संगत युद्ध 907 32 ⇨

### नियम संहिता

विधि संहिता 878 6

### नियम से

अपवादहीनत 879 26

नियमितत 71 23

न्यायपूर्वक 874 39

### नियम से होना

नियमित होना 71 6

### नियम स्थितता

तपस्या 756 21

### नियम स्थिति

तपस्या 756 21

### नियमहीन

अनियमित 71 11

### नियमहीनता

अनियमितता 71 3

नियत्रणहीनता 900 2

### नियमाधीन

नियमानुकूल 879 18

नियमित 879 17

### नियमाधीनतः

नियत्रितत 899 26

### नियमाधीनता

नियमानुकूलता 879 9

नियमितता 879 6

### नियमाधीन शासन

सनियम शासन 893 2

### नियमानुकूल

नियमानुकूल 879 18 ⇨

विधि संगत 514 14

### नियमानुकूलतः

नियमानुकूलत 879 24 ⇨

### नियमानुकूलता

नियमानुकूलता 879 9 ⇨

### नियमानुकूल युद्ध

नियम संगत युद्ध 907 32

### नियमानुसार

नियमितत 71 23

विधि संगत 514 14

### नियमानुसारतः

नियमानुकूलत 879 24

### नियमानुसारता

नियमानुकूलता 879 9

### नियमावली

प्रक्रिया पुस्तक 446 22

विधि संहिता 878 6

### नियमित

अपवादहीन 879 23

नियमानुकूल 879 18

नियमित 879 17 ⇨

नियमित 71 10 ⇨

### नियमित आवर्तिता

नियमितता 71 2

### नियमित आवृत्तिशील

नियमित 71 10

### नियमित करना

नियत्रित करना 899 20

### नियमिततः

अपवादहीनत 879 26

नियत्रितत 899 26

नियमितत 71.23 ⇨

### नियमितता

नियमितता 71 2 ⇨

नियमितता 879 6 ⇨

व्यवस्थितता 893 6

### नियमित रूप से

नियमितत 71 23

### नियमित समय पर

नियमितत 71.23

### नियमित होना

नियमित होना 71.6 ⇨

### नियमी

नियम पालक 879 20

सयमी 808 17

### नियमीय .

विधीय 878 25

### नियमोत्संघक

नियम भंजक 879 21

### नियमोत्संघन

नियम भजन 879.8

नियमोत्संघन 861 11 ⇨

### नियर

निकट में 31 9

निकटस्थ 31 7

### नियरा [नियरी]

निकटस्थ 31 7

### नियराई

निकट आगमन 1093 4

निकटता 31 1

समकक्ष आगमन 1095 3

### नियरे

निकट मे 31 9

### नियराज

नमाजे जनाजा 253 13

### नियराजमंद

फरियादी 350 22

### नियामक

दिशा निर्धारक 29 24

नियत्रक 899 12

परिषद सदस्य 889 8

विधायक 878 22

शासक 890 5

सारथी 1079 10

### नियामत

उत्तमता उपमान सूची 313 4

प्रसाद 750 13

वरदान 714 1

### नियामन

नियत्रण कर्म 899 11

### नियारना

छांटना 1009 15

### नियुक्त

नियुक्त 653 32 ⇨

प्रवृत्त 502.10

सन्नद्ध 491 16

### नियुक्त करना

नियुक्त करना 653 24 ⇨

### नियुक्त कर्ता

नियुक्त कर्ता 653.33 ⇨

### नियुक्ति

पद नियुक्ति 653 6

### नियुक्ति कर्ता

नियुक्त कर्ता 653 33

### नियुक्ति पत्र

नियुक्ति पत्र 653 7 ⇨

### नियुत

दस लाख 948.76

लाख 948 75

### नियोक्ता

आज्ञापक 347 15

जोतनहार 1079 22

नियुक्त कर्ता 653 33

पूंजी निवेशक 628.30

वेतन दाता 643 24

### नियोग

नियोग 241 3 ⇨



यान जुताई 1079 1  
**नियोगज**  
 क्षेत्रज 716 17  
**नियोगी**  
 प्रवृत्त कर्ता 502 11  
**नियोजक**  
 आयोजक 655 19  
 नियुक्त कर्ता 653 33  
 पूँजी निवेशक 628 30  
 प्रवृत्त कर्ता 502.11  
**नियोजन**  
 आयोजन 655 3  
 उत्प्रेरण 499 2  
 प्रवर्तन 693 3  
 योजना निर्माण 520 2  
 सस्थापना 693 1  
**नियोजित**  
 आयोजित 655 18  
 नियुक्त 653 32  
 निवेशित (पूँजी) 628 29  
 प्रवृत्त 502 10  
 योजित 520 17  
 सस्थापित 693 9  
**नियोजित परिवार**  
*नियोजित परिवार 240 3 ⇨*  
**नियोन (अँ)**  
 निओन 86 7  
**नियोरिचि (अँ)**  
 नव घनाढ्य 626 16  
**निरंकारी**  
 निरकारी सिख 737 23  
 निराकार 967 13  
**निरंकारी सिख**  
*निरकारी सिख 737.23 ⇨*  
**निरंकुश**  
 अदम्य 519 28  
 नियंत्रणहीन 900 8  
*निरंकुश 881.40 ⇨*  
 शिव 767.1  
 स्वेच्छाघारी 809 7  
**निरंकुश तंत्र**  
*निरंकुश तंत्र 881.22 ⇨*  
**निरंकुशातः**  
 स्वेच्छाघारितः 809.11  
**निरंकुशाता**  
 निरंकुश तंत्र 881 22  
**निरंकुशाता वाद**  
*निरंकुशाता वाद 884.4 ⇨*  
**निरंकुशा शासन**  
 अनियम शासन 894 2  
**निरंग**  
 अमिश्रित 1008 30  
 निराकार 967 13  
**निरंजन**  
 ईश्वर 764 1  
 परिपूर्ण 313 14  
 शिव 767.1

**निरंतर**  
 अनश्वर 37 9  
 अशिराम 1049 10  
 अशिरामत 1049 16  
 शाश्वत 37 7  
 सटा [सटी] 31 8  
 समान 309 22  
**निरंतर अभ्यास**  
 साधना 303 7  
**निरंतर काल**  
 अनादि अन्त काल 36 2  
**निरंतरता**  
 अशिरामता 1049 1  
 शाश्वतता 37 1  
 'सटापन' 31 2  
**निरंतर पाठ**  
 अखड पाठ 749 12  
**निरंतर प्रवाह**  
 अशिराम गति 1049 2  
**निरंतराल**  
 तारतम्यपूर्ण 1049 12  
 सटा [सटी] 31 8  
**निरंबर**  
 दिगांबर 737 3  
 दिगांबर वेश 589 8  
 नग्न 590 16  
**निरंबु**  
 जलहीन 89 11  
**निरक्षर**  
 अशिक्षित 321 42  
*निरक्षर 320.5 ⇨*  
**निरक्षर (दे.)**  
 मूर्ख 302 7  
**निरक्षरता**  
*निरक्षरता 320 2 ⇨*  
**निरक्षर भट्टाचार्य**  
*निरक्षर भट्टाचार्य 320 3 ⇨*  
**निरख**  
 निरीक्षण 284 16  
**निरखना**  
 देखना 284 30  
 निरीक्षण करना 284 44  
 विमर्श करना 330 16  
**निरघ**  
 परिपूर्ण 313 14  
 पापहीन 813 9  
**निरजोसी**  
 निष्कर्षक 83 15  
**निरत**  
 विश्रांत 494 21  
**निरधार**  
 निराधार 1019 16  
**निरधिकार**  
 अधिकारहीन 898 3  
**निरधिकाप्रतः**  
 अधिकारहीनतः 898 4  
**निरधिकाप्रिता**  
 अधिकारहीनता 898 1

**निरनुग**  
 अनुगामीहीन 346 8  
**निरन्न**  
 अप्राप्तभोजन 181.52  
**निरन्वय**  
 असंबन्धित 715 13  
**निरपराध**  
 अपराध मुक्त 869 9  
 अपराधहीन 861 16  
 अपराधहीनत 861 17  
**निरपराधता**  
 अपराधहीनता 861 3  
**निरपराधी**  
 अपराधहीन 861 16  
**निरपवाद**  
 अपवादहीन 879 23  
**निरपेक्ष**  
 अनपेक्षी 360 14  
 अनासक्त 366 5  
 अमहत्त्वाकाक्षी 508 10  
 असापेक्ष 309 19  
 निश्चित 378 8  
 पक्षपातहीन 88/ 10  
**निरपेक्षक**  
 उपेक्षक 185 8  
**निरपेक्षतः**  
 अप्रत्याशितत 376 8  
 इच्छाहीनत 360 21  
**निरपेक्षता**  
 अनासक्ति 366 1  
 अमहत्त्वाकाक्षा 508 4  
 इच्छाहीनता 360 1  
**निरपेक्षा**  
 अनपेक्षा 360 2  
 उपेक्ष 185 2  
**निरपेक्षित**  
 अनपेक्षित 360 13  
**निरबंशिया**  
 निस्सतान 240 9  
 वंशजहीन 727 41  
**निरबंसी**  
 वंशजहीन 727 41  
**निरभिमा<sup>4</sup>**  
 अनभिमानी 859 6  
**निरभिलाष**  
 इच्छाहीन 360.9  
**निरभिलाषी**  
 अमहत्त्वाकाक्षी 508 10  
**निरन्न**  
 मेघहीन 55 15  
**निरभूलना**  
 उन्मूलित करना 548 43  
**निरमोही**  
 कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8  
**निरमलतः**  
 अवरोधहीनतः 1049.23  
**निरर्थक**  
 अनिच्छनीय 360.11

अनुपयोगी 525 8  
 अर्थहीन 426 28  
 दिशाहीन 1099 11  
 प्रतिफलहीन 510 14  
 प्रयोजनहीन 509 3  
 बकवासपूर्ण 428 25  
 लाभहीन 649 12  
**निरर्थक कार्य**  
 व्यर्थ कार्य 506 3  
**निरर्थकता**  
 अनुपयोगिता 525 2  
**निरर्थक प्रार्थना**  
 अरुण्य रोदन 350 7  
**निरवकाश**  
 व्यस्त 502 13  
 सटा [सटी] 31 8  
**निरवद्य**  
 अनासक्त 366 5  
 उत्तम 213 13  
**निरवद्यता**  
 परिपूर्णता 313 5  
**\* निरवधि**  
 अवधिहीन 39 10  
 असीम 1001 34  
**निरवद्यव**  
 निराकार 967 13  
**निरवलंब**  
 निराधार 1019 16  
 विवश 901 11  
**निरवलंबता**  
 निराधारता 1019 4  
**निरवशिष्ट**  
 अनवशिष्ट 954 18  
**निरवशेष**  
 अनवशिष्ट 954 18  
 अवशेषहीन 939 19  
 पूर्णांशिक 940 13  
 समाप्त (कार्य) 522 4  
**निरवशेषता**  
 अवशेषहीनता 939 9  
**निरवसाद**  
 प्रसन्न 381 7  
 शोकहीन 382.24  
**निरवसादता**  
 शोकहीनता 382 9  
**निरवार**  
 संकट मोचन 910 1  
**निरवारना**  
 निवारण करना 920 14  
 प्रहार बघाना 920 13  
 समाधान करना 334.10  
**निरस**  
 स्वादहीन 275.16  
**निरसक**  
 विस्थापक 1036.14  
**निरसन**  
*निरसन 338.9 ⇨*  
 निवारण 920.4

## निरसन कर्ता

परित्याग 1003 1  
प्रतिरोध 329 4  
बातिलकरण 338 12  
बेदखली 1036 8  
विस्थापना 1036.2  
निरसन कर्ता  
विस्थापक 1036 14  
निरसित  
निरस्त 338 39  
निरसित करना  
निरस्त करना 338 24  
निरस्त  
नष्ट 531 7  
निरस्त 338 39 ⇨  
निवारित 920 17  
बातिल 338 44  
निरस्त करना  
निरस्त करना 338.24 ⇨  
निरस्ताराग  
विरक्त 366 6  
निरस्तित्व  
अजीवित 247 8  
निरस्तीकरण  
निरसन 338 9  
निरस्त्र  
शस्त्रहीन 930 7  
निरस्थि  
अस्थिहीन 133 22  
निरहंकार  
दर्पहीन 859 8  
दर्पहीनता 859.3  
शिव 767.1  
निरांतक  
शिव 767 1  
निरा [निरा]  
अत्यधिक 944 7  
अभिभ्रित 1008 30  
एकमात्र 946 20  
विशुद्ध 219.7  
निराई  
निराई 548 31 ⇨  
निराई करना  
निराना 548 45  
निराकरण  
निरसन 338 9  
निवारण 920 4  
संदेह निवारण 340 7  
निराकरण करना  
निरस्त करना 338 24  
निराकांक्षी  
अमहत्त्वाकांक्षी 508 10  
निराकांक्षी [निराकांक्षिणी]  
इच्छाहीन 360 9  
निराकार  
आयामहीन 964.21  
ईश्वर 764 1  
निराकार 967 13 ⇨  
निराकार ईश्वर 764 8

विष्णु 768 1  
शिव 767 1  
निराकार ईश्वर  
निराकार ईश्वर 764.8 ⇨  
निराकारता  
आयामहीनता 964.3  
निराकारता 967.2 ⇨  
निराकार पूजा  
निराकार पूजा 751 6 ⇨  
निराकार भक्ति  
निराकार पूजा 751 6  
निराकारा  
भरा [भरी] 1004 12  
निराकुल  
धैर्यशील 394 15  
निरुद्धिन 378 9  
निश्चित 378 8  
स्थिरचित्त 355 6  
निराकृत  
निरस्त 338 39  
निवारित 920 17  
निराकृति  
निरसन 338 9  
निराडंबर  
पाखंडहीन 822 31  
निरातंक  
नियंत्रणहीन 900.8  
साहसी 394.13  
निरातप  
छायादार 286 18  
निरातपा  
रात 48 1  
निरादर  
अपमान 855 1  
निरादरण  
अपमानन 855.2  
निरादरपूर्ण  
अपमानजनक 855 10  
निरादर्य  
अपमान्य 855 12  
निरादर्य  
आदर्शहीन 828 11  
निराधार  
अवास्तविक 821.20  
तथ्यहीन 821 22  
तर्कहीन 325 22  
निराधार 1019.16 ⇨  
निराधार अनुमान  
अटकल 947.3  
निराधारता  
तथ्यहीनता 821 11  
निराधारता 1019.4 ⇨  
निरानंद  
आनंदहीन 383.10  
निराना  
निराना 548.45 ⇨  
निरापद  
सुरक्षित 908.27

निरापदता  
सुरक्षा 908.4  
निराम  
अतेजस्वी 839.10  
निरामता  
विवर्णता 289.23  
निराम नीहारिका  
कृष्ण नीहारिका 1.13  
निरामय  
परिपूर्ण 313.14  
शिव 767 1  
निरामयता  
स्वस्थता 161.3  
निरामिष  
निरामिष 204.4 ⇨  
बेगार श्रमिक 643.21  
मांसहीन 132 19  
निरामिष अंडा  
निरामिष अंडा 206 3 ⇨  
निरामिष आहार  
निरामिष आहार 204.2 ⇨  
निरामिषता  
निरामिषता 204.1 ⇨  
निरामिष पुलाव  
तंहरी 202 3  
निरामिषाहारी  
निरामिषाहारी 204 5 ⇨  
निरायत  
सिकुड़ा [सिकुड़ी] 980 28  
निरायाम  
आयामहीन 964 21  
निराकार 967 13  
निरायामता  
आयामहीनता 964.3  
निराकारता 967.2  
निरायास  
अप्रयत्नत 490 15  
सहजत 518.24  
निरायुध  
शस्त्रहीन 930 7  
निरालंब  
निराधार 1019.16  
ब्रह्म 764 24  
निरालस  
आलस्यहीन 493.12  
आलस्यहीनतः 493.16  
निरालस्य  
आलस्यहीन 493 12  
निराला  
एकांत स्थान 697.4  
निराला [निराली]  
अनुपम 312.17  
विलक्षण 312.16  
निरालापन  
अनुपमता 312 4  
विलक्षणता 312.3  
विशिष्टता 312.2

निरालोक  
आलोककृत 286 15  
निरावरण  
अनावरण 822.10  
अनावृत 822 29  
निरावासन  
निरावासन 617.4 ⇨  
विस्थापना 1036.2  
निरावासित  
निरावासित 617.14 ⇨  
निरावृत  
भ्रूनायुत 822 29  
निराश  
असफल 513 4  
आशाहीन 376.5  
उत्साहहीन 492 13  
हताश 376 6  
निराश होना  
हताश होना 376 4  
निराशा  
असफलता 513.1  
आशाहीनता 376 1  
उत्साहहीनता 492.1  
रात 48 1  
हताशा 376 2  
निराशानुभूति  
अवसादानुभूति 353 5  
निराशापूर्ण  
आशाहीन 376 5  
निराशी  
आशाहीन 376 5  
निराश्रय  
अनाथ 719 5  
अवलंबनहीन 649.10  
विदश 901 11  
साधनहीन 558.20  
निराश्रित  
अनाथ 719 5  
निरास  
आशाहीन 376 5  
निरासन  
निर्वासन 870.8  
निराहार  
अप्राप्तभोजन 181.52  
क्षुधित 180 15  
व्रत उपवास 748 1  
निराहार उपवास  
निराहार उपवास 748.3 ⇨  
निरिंद्रिय  
इंद्रियहीन 288.13  
निरिक्षक  
इन्डिजिलेटर 322.36  
निरिक्षक 284.17 ⇨  
निरिक्षण  
अवलोकन 284.1  
इन्डिजिलेटर 322.18  
निरिक्षण 284.16 ⇨  
पर्यवेक्षण 284.21

निरीक्षण करना  
निरीक्षण करना 284.44 ⇨  
निरीक्षणधीन  
विचारधीन 330.21  
निरीक्षित  
निरीक्षित 284.54 ⇨  
निरीश्वर  
धर्महीन 735.15  
निरीश्वरवाद  
नास्तिकतावाद 760 14  
निरीह  
अनासक्त 366.5  
असहाय 701.8  
इच्छाहीन 360 9  
निरीहता:  
इच्छाहीनता 360 21  
निरीहता  
वाधारुद्धता 429 8  
निरीहा  
इच्छाहीनता 360 1  
निरुक्त  
वेदांग सूची 740 41  
व्युत्पत्ति सहित व्याख्या 427 18  
शब्द व्युत्पत्ति 423 2  
निरुक्ति  
पद अन्वय 427 5  
व्युत्पत्ति सहित व्याख्या 427 18  
निरुत्तर  
अनुत्तरदायी 896 7  
निरुत्तर 335 10 ⇨  
निरुत्तरता  
उत्तरदायित्वहीनता 896.2  
निरुत्तरता 335.2 ⇨  
निरुत्तरदायित्व  
उत्तरदायित्वहीनता 896.2  
निरुत्तरदायी  
अनुत्तरदायी 896.7  
निरुत्तर होना  
निरुत्तर होना 335 7 ⇨  
निरुत्तरित रहना  
अनुत्तरित रहना 335.6  
निरुत्सव  
आनंदहीन 383.10  
निरुत्साह  
उत्साहहीन 492 13  
उत्साहहीनता 492 1  
निरुत्सुक  
जिज्ञासाहीन 306.19  
निरुद्धक  
जलहीन 89 11  
निरुद्देश्य  
उद्देश्यहीन 509.4  
उद्देश्यहीनतः 509.8  
दिशाहीन 1099.11  
निरुद्देश्यतः  
उद्देश्यहीनतः 509 6  
निरुद्देश्यता  
उद्देश्यहीनता 509 2

दिशाहीनता 1099.3  
निरुद्ध  
निषिद्ध 880 12  
प्रवाहहीन 1041.9  
वाधारुद्ध 429.27  
निरुद्धमी  
अप्रयत्नशील 490.9  
निरुद्धिग्न  
निरुद्धिग्न 378.9 ⇨  
शांत 372 9  
स्थिरचित्त 355.6  
निरुद्धिग्नता  
निरुद्धिग्नता 378 3 ⇨  
शांति 372 1  
निरुद्धव  
शांतिपूर्ण 906 13  
सुरक्षित 908 27  
निरुद्धप  
अनुपम 312 17  
उत्तम 313 13  
निरुद्धपमता  
अनुपमता 312 4  
निरुद्धपमा  
गायत्री 774 34  
निरुद्धपयोगिता  
अनुपयोगिता 525 2  
निरुद्धपयोगी  
अनुपयोगी 525 8  
निरुद्धपाय  
अनिवार्य 919 9  
असहाय 701 8  
विकल्पहीन 516 5  
साधनहीन 558 20  
निरुद्धपायतः  
असहायत 701 10  
विकल्पहीनत 516 8  
विवशत 901 13  
निरुद्धपायता  
असहायता 701 2  
विकल्पहीनता 516 3  
साधनहीनता 558 3  
निरुद्धप  
निराकार ईश्वर 764 8  
वायु 85.1  
निरुद्धक  
प्रतिपादक 326 16  
व्याख्याता 427.32  
निरुद्धपण  
अनुसंधान 307 4  
खोज 336 4  
तर्कण 325.9  
परिभाषण 317 2  
परिभाषा 317 1  
वर्णन 449.1  
व्याख्यायन 427 16  
निरुद्धपना  
वर्णन करना 449.19  
व्याख्या करना 427 22

निरुद्धित  
अनुसंधानित 307 15  
गढ़ा [गढ़ी] 545 27  
परिभाषित 317 17  
प्रतिपादित 326 14  
वर्णित 449 24  
निरुद्धप्य  
परिभाष्य 317 19  
प्रतिपाद्य 326 15  
निरुद्धहण  
तर्कण 325 9  
निरुद्धोग  
स्वस्थ 161 5  
निरुद्धोगता  
स्वस्थता 161 3  
निरुद्धोध  
निषेध 880.1  
सयम 808 8  
निरुद्धोधक  
गति रोधक 1047 24  
निषेध कर्ता 880 11  
निरुद्धोधित  
निषिद्ध 880 12  
रुद्ध 272 10  
निरुद्धधी  
निषेध कर्ता 880 11  
निरुद्धोपण  
कलम लगाई 548 11  
निरुद्धोपित  
सस्थापित 693 9  
निरुद्धोक्ति  
निश्च्यति 774 51  
निर्ख  
मूल्य 664 1  
निर्ख दारोशा  
मूल्य नियंत्रक 664 37  
निर्खनामा  
मूल्य सूची 993 7  
निर्खंबदी  
मूल्य निर्धारण 664 5  
निर्गंध  
गंधहीन 273 14  
निर्गत  
निर्गमित 1092 15  
निर्गम  
उत्स्रोतन 21 2  
गमन 1091 1  
निर्गम 1092 1 ⇨  
निर्गम द्वार 608 4  
निर्गम अनुमति दान  
निर्गम अनुमति दान 1092 5 ⇨  
निर्गम अनुमति पत्र  
निर्गम अनुमति पत्र 1092.7 ⇨  
निर्गम करना  
निकलना 1092 11  
निर्गम कर्ता  
निर्गम कर्ता 1092 17 ⇨

निर्गम द्वार  
निर्गम द्वार 608.4 ⇨  
निर्गमन  
निर्गमन 1092.2 ⇨  
निर्गमन करना  
निकलना 1092 11  
निर्गमनशील  
निर्गमनशील 1092 16 ⇨  
निर्गम निषेध  
निर्गम निषेध 1092 4 ⇨  
निर्गम पत्र  
निर्गम पत्र 1092 6 ⇨  
निर्गम मार्ग  
निर्गम द्वार 608 4  
निर्गम मार्ग 1092 3 ⇨  
निर्गम संकेत सूची  
निर्गम संकेत सूची 1092 20 ⇨  
निर्गमित  
निर्गमित 1092 15 ⇨  
निर्गम्य  
अनभिमानी 859 6  
निर्गामी  
निर्गम कर्ता 1092 17  
निर्गुट  
अपक्षधर 887 9  
निर्गुण  
अपरिभाष्य 317 20  
ईश्वर 764 1  
त्रिगुणातीत 762 13  
निराकार 967 13  
निर्गुण ईश्वर 764 9  
निर्गुण ब्रह्म 764 28  
निर्गुण ईश्वर  
निराकार ईश्वर 764 8  
निर्गुण ईश्वर 764 9 ⇨  
निर्गुणता  
निराकारता 967 2  
सामान्यता 311 1  
निर्गुण पूजा  
निराकार पूजा 751 6  
निर्गुण ब्रह्म  
निर्गुण ब्रह्म 764.28 ⇨  
निर्गुण भक्ति  
निराकार पूजा 751 6  
निर्गुण  
उन्मुक्त 1015 9  
ग्रथि मुक्त 574 12  
दिगांबर साधु 790 25  
नियंत्रणहीन 900 8  
बौद्ध भिक्षु 790 27  
निर्गुणक  
अक्ष घृतकर 481 9  
ग्रथि मोचक 574 13  
दिगांबर साधु 790 25  
बौद्ध भिक्षु 790 27  
मित्रहीन 705 29  
निर्गुण्यता  
ग्रथिहीनता 574.1

## निर्ग्रथन

निर्ग्रथन  
 ग्रथि मोघन 574 3  
 निर्ग्रथि  
 ग्रथिहीन 574 10  
 निर्ग्रथिक  
 दिग्बर साधु 790 25  
 निर्ग्रथित  
 ग्रथि मुक्त 574 12  
 निर्ग्रथिता  
 ग्रथिहीनता 574 1  
 निर्घट  
 करमुक्त 647 42  
 निर्घन  
 सघन 81.15  
 निर्घोष  
 ध्वनिहीन 295 4  
 निर्जन  
 अनावसित 617.13  
 एकांत मार्ग 1063 18  
 निर्जन 617 16 ⇨  
 निर्जन स्थान 617 7  
 मरुथल 11 11  
 निर्जनता  
 एकांतता 697 3  
 निर्जनता 617 6 ⇨  
 रिक्तता 1005 !  
 निर्जन मार्ग  
 एकांत मार्ग 1063 18  
 निर्जन स्थान  
 निर्जन स्थान 617 7 ⇨  
 निर्जन होना  
 निर्जन होना 617.10 ⇨  
 निर्जर  
 अजर 533 15  
 अनश्वर 37 9  
 अपरिवर्तनशील 533 10  
 देवता 772 1  
 निर्जल  
 जलहीन 89 11  
 मरुथल 11 11  
 शुष्क 89 9  
 निर्जल उपवास  
 निर्जल उपवास 748 2 ⇨  
 निर्जलता  
 जलहीनता 89 4  
 निर्जलन  
 शुष्कन 89 2  
 निर्जल ब्रत  
 निर्जल उपवास 748 2  
 निर्जलीकरण  
 शुष्कन 89 2  
 निर्जित  
 दमित 911 14  
 निर्जिह्व  
 वाघाहीन 429 25  
 निर्जीव  
 अजीवित 247 8  
 अबलिष्ठ 159 12

गतिह्वत 1047 21  
 स्फूर्तिहीन 492 14  
 निर्जीवातुकरण  
 पास्तेरीकरण 554 9  
 निर्जीवातुकारी  
 विसक्रामक 170 9  
 निर्जीवीकरण  
 गतिहरण 1047 1  
 निर्झर  
 निर्झर 21.8 ⇨  
 निर्झरणशील  
 निर्झरणशील 21.38 ⇨  
 निर्झर ध्वनि  
 झरझराहट 297 20  
 निर्झरिणी  
 नदी 20 1  
 निर्झरित  
 निर्झरित 21 37 ⇨  
 निर्झरित होना  
 निर्झरित होना 21 29 ⇨  
 निर्झरी  
 नदी 20 1  
 पर्वत 16 3  
 निर्णय  
 उपपत्ति 328 1  
 जय पराजय 912 7  
 निर्णय 328 4 ⇨  
 न्याय निर्णय 877 14  
 मुप्ती आदेश 744 22  
 विवाद समाधान 877 4  
 निर्णय करना  
 निर्णय करना 328 8 ⇨  
 न्याय करना 874 32  
 निर्णय कर्ता  
 निर्णय कर्ता 328 13 ⇨  
 निर्णयगत  
 दुबिधामुक्त 500 14  
 निर्णयन  
 निर्धारण 328 6  
 निर्णय न कर पाना  
 दुबिधा में होना 501 5  
 निर्णय पक्ष  
 निर्णय पक्ष 324 15 ⇨  
 निर्णयात्मक  
 निर्णयात्मक 328 11 ⇨  
 निर्णायक  
 निर्णय कर्ता 328 13  
 निर्णयात्मक 328 11  
 मुप्ती 744 21  
 समाधान कर्ता 877 25  
 निर्णायकता  
 निर्णायकता 328.5 ⇨  
 निर्णायक पंथ  
 विवाचक पथ 877 7  
 निर्णायक मत  
 निर्णायक मत 889 12 ⇨  
 निर्णीत  
 दुबिधामुक्त 500 14

दृक्मतपूर्ण 343 13  
 निर्णीत 328 12 ⇨  
 निर्णीत करना  
 निर्णय करना 328 8  
 निर्णीतता  
 स्पष्टता 822 1  
 निर्णीत मत  
 निर्णीत मत 324 16 ⇨  
 निर्णेत  
 निर्णय कर्ता 328 13  
 न्यायाधीश 874 15  
 निर्देत  
 अदंतुरित 144 17  
 निर्देभ  
 दर्पहीन 859 8  
 निर्देय  
 कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8  
 निर्देय 835 10 ⇨  
 हिंसक 251 31  
 निर्देयता  
 निर्देयता 835.2 ⇨  
 निर्देयतापूर्ण  
 निर्देयतापूर्ण 835 9 ⇨  
 निर्देयी  
 कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8  
 निर्देय 835 10  
 निर्दलन  
 पददलन 911 5  
 निर्दली  
 निर्दलीय 887 14  
 निर्दलीय  
 निर्दलीय 887 14 ⇨  
 निर्दलीयता  
 निर्दलीयता 887 5 ⇨  
 निर्दहन  
 दहन 108 1  
 निर्दिष्ट  
 आज्ञापित 347 14  
 निर्देशित 347 18  
 परिभाषित 317 17  
 मात्रा में नियत 946 17  
 वर्णित 449 24  
 स्पष्ट 822 20  
 निर्दिष्ट अर्थ  
 स्पष्ट अर्थ 426 14  
 निर्दिष्ट अवधि  
 अतिम दिन 39 4  
 निर्दिष्टता  
 स्पष्टता 822 1  
 निर्देश  
 आज्ञा 347.1  
 दिशा सकेत 29.25  
 निर्देश 347 4 ⇨  
 निर्देशक  
 अनुदेशक 323 22  
 निर्देशक 347 17  
 निर्देशक 652 22  
 निर्देशक 347 19 ⇨

मंथ निर्देशक 468 11  
 मार्ग प्रदर्शक 1098 4  
 सूत्रधार 468 13  
 निर्देश करना  
 निर्देशन करना 347 10  
 निर्देशन  
 निर्देशन 347 3  
 मार्ग प्रदर्शन 1098 3  
 संचालन 655 1  
 निर्देशन करना  
 निर्देशन करना 347 10 ⇨  
 निर्देशन कर्ता  
 निर्देशक 347 19  
 निर्देशनी  
 निर्देश पुस्तक 446 21  
 निर्देश पटल  
 रोड साइन 442 16  
 निर्देश पुस्तक  
 निर्देश पुस्तक 446 21 ⇨  
 निर्देशानुसार  
 अनुदिशत 1098 29  
 निर्देशानुसार उद्धान  
 ससंपर्क उद्धान 1081 13  
 निर्देशिका  
 डायरेक्टरी 993 12  
 निर्देश पुस्तक 446 21  
 निर्देशित  
 निर्देशित 347 18 ⇨  
 निर्दिष्ट  
 निर्देशक 652 22  
 परिभाषक 317 16  
 निर्दोष  
 अपराध मुक्त 869 9  
 अपराधहीन 861 16  
 परिपूर्ण 313 14  
 सुधील 155 4  
 निर्दोषता  
 अपराधहीनता 861.3  
 परिपूर्णता 313.5  
 निर्दोषिता  
 अपराधहीनता 861 3  
 निर्द्वंद्व  
 अनाशंकित 378 7  
 अलमस्त 382 23  
 दुबिधाहीन 500 13  
 निश्चित 378 8  
 साहसपूर्वक 394 18  
 निर्धन  
 असमृद्ध 627 16  
 निर्धन 627 20 ⇨  
 निर्धन आहार  
 निर्धन आहार 197.8 ⇨  
 निर्धन जन  
 निर्धन जन 627.6 ⇨  
 निर्धनता  
 निम्नवित्तता 625.5  
 निर्धनता 627.5 ⇨

नेर्धन होना	उन्मुक्त 1015 9	स्वेच्छाघारी 809 7	निर्माण
निर्धन होना 627 14 ⇨	निर्बाधता	निर्मर्यादितः	अत्यधिक 944 7
नेर्धनीकरण	अवरोधहीनता 1049.4	स्वेच्छाचारित 809 11	निर्मारजन
निर्धनीकरण 627.9 ⇨	निर्बाधित	निर्मल	प्रक्षालन 220 1
नेर्धर्म	अनिषिद्ध 880 13	उज्ज्वल 218 37	मार्जन 218 8
धर्महीन 735.15	निर्बुद्धि	चढ़ावा चढ़ा 750 17	निर्मात्य
नेर्धार	मूर्ख 302 7	घृष्टहीन 106 27	चढ़ाया चढ़ा 750 17
समाधान 334 6	निर्भय	परिपूर्ण 313 14	निर्मित
नेर्धारण	भयहीन 394 16	स्वच्छ 218 33	मानव रचित 527 19
कोटिकरण 936 5	साहसी 394 13	निर्मल करना	रचित 527 12
निर्धारण 328.6 ⇨	सुरक्षित 908 27	स्वच्छ करना 218 24	निर्मित जलाराय
परिभाषण 317 2	निर्भयता	निर्मलता	तालाब 18 10
सकल्पन 500 2	भयहीनता 394 7	परिष्कृतता 537 3	निर्मितता
नेर्धारित	साहस 394 1	स्वच्छता 218 1	मानव रचितता 527 5
निर्धारित 328 14 ⇨	सुरक्षा 908 4	निर्मलीकरण	निर्मित वस्तु
परिभाषित 317 17	निर्भय दान	मार्जन 218 8	उत्पाद 546 1
नेर्धारित करना	सकट मोचन 910 1	निर्मास	निर्मित हिम
निर्धारित करना 328 9 ⇨	निर्भर	क्षीणकाय 159 13	बरफ 90 2
नेर्धारित काल	आधारित 1019 17	निरामिष 204 4	निर्मिति
नियत काल 39 1	निर्भरणीय	मांसहीन 132 19	इमारत 802 6
नेर्धारित गुणयुक्त	विश्वसनीय 340 13	निर्मासता	कक्षाकृति 397 20
मानकयुक्त 957 7	निर्भरणीयता	निरामिषता 204 1	रचना विन्यास 527 8
नेर्धारितता	विश्वसनीयता 340 2	निर्माण	स्थापत्य कृति 599 4
स्पष्टता 822 1	निर्भरता	भवन निर्माण 598 1	निर्मुड
नेर्धारित दिन	आधारितता 1019 1	स्थापत्य 599 1	सिरहीन 140 24
नियत दिन 39 3	परस्परता 703 1	स्थापत्य कृति 599 4	निर्मुक्त
नेर्धार्य	परावलंबितता 648.3	निर्माण अभियांत्रिकी	उन्मुक्त 1015 9
परिभाष्य 317 19	निर्भाव	निर्माण अभियांत्रिकी 599 10 ⇨	सकटयुक्त 910 9
नेर्धूष	अनुभूतिहीन 264 19	निर्माण आयोजन	निर्मुल
धृष्टहीन 106 27	निर्भीक	निर्माण आयोजन 599 14 ⇨	उन्मूलित 548 57
नेर्नब्ध	साहसी 394 13	निर्माण उद्यमी	तथ्यहीन 821 22
अनाथ 719 5	निर्भूति	निर्माण उद्यमी 599.9 ⇨	नष्ट 531 7
नेर्नब्धता	बेगार श्रमिक 643.21	निर्माण उद्योग	निर्मूलन
अनाथता 719 1	निर्भ्रम	निर्माण उद्योग 599.8 ⇨	उन्मूलन 548 28
नेर्निमित्त	अनाशक्ति 378 7	निर्माण करना	निर्मूलित
कारणहीनता 507 8	भ्रमहीन 340 21	रचित करना 527 9	उन्मूलित 548 57
प्रयोजनहीन 509.3	निर्भ्रात	निर्माण न करना	निर्मैघ
नेर्निमेष	भ्रमहीन 340 21	रचना न करना 528 4	मेघहीन 55.15
ताकते हुए 284 57	निर्भ्रज	निर्माण परिकल्पना	निर्माक
विस्फारित 119 12	मज्जाहीन 132 21	निर्माण परिकल्पना 599.15 ⇨	केपुली 134 17
विस्फारितत 119 15	निर्मद	निर्माण पर्यवेक्षक	निर्माचक
नेर्बध	निर्मदीकृत 211 17	निर्माण पर्यवेक्षक 599.13 ⇨	उन्माचक 1015 10
उन्मुक्त 1015.9	निर्मदीकरण	निर्माण पर्यवेक्षण	निर्माचन
नेर्बधन	निर्मदीकरण 211 7 ⇨	निर्माण पर्यवेक्षण 599.12 ⇨	उन्माचन 1015 1
उन्माचन 1015 1	निर्मदीकृत	निर्माण विद्या	निर्माचन धन
ग्रथि मोचन 574 3	निर्मदीकृत 211.17 ⇨	स्थापत्य 599 1	अपहरण धन 862.2
नेर्बल	निर्मम	निर्माण विभाग	निर्मास
अप्रबल 488 14	अनासक्त 366 5	निर्माण विभाग 599.7 ⇨	मूल्यातीत 664 30
अबलिष्ठ 159.12	अभायुक 358.30	निर्माण ध्ववसाय	निर्माह
समताहीन 488.15	कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8	निर्माण-उद्योग 599 8	अनासक्त 366 5
शक्तिहीन 488.10	निर्दय 835.10	निर्माणारम्भक	अनासक्ति 366 1
नेर्बलता	शिव 767.1	रचनात्मक 527.11	अभायुक 358.30
अबलिष्ठता 159.3	हिसक 251.31	निर्माता	परजन भावना 725.4
नेर्बल होना	निर्ममता	गढ़ैया 545.5	विरक्त 366.8
शक्ति नाश होना 488.6	निर्दयता 835 2	फिल्म निर्माता 470 4	शिव 767 1
नेर्बाध	परजन भावना 725.4	भवन निर्माता 598.2	निर्माही
अनिषिद्ध 880.13	निर्मर्याद	रक्षता 527.14	कठोरहृदय 835.11
अवरोधहीन 1049.13	असम्भ्य 734 14	स्थापति 599.2	कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8

## निर्मोहीपन

### निर्मोहीपन

निर्दयता 835.2

### निर्वचन

श्राव 83 3

### निर्वाण

गमन 1091 1

निर्गम 1052 1

### निर्वात

निर्गमित 1092 15

### निर्वातक

निर्वातक 657 10 ⇨

### निर्वात कर्ता

निर्वातक 657 10

### निर्वास

अर्क 84 13

गोद 1012 7

निर्वास 84.7 ⇨

### निर्वास घ्यावन

श्रावण 83 4

### निर्वासन

श्रावण 83 4

### निर्वासित कथना

श्रावित करना 83 12

### निर्वृण

रुहवा 208 18

गोद 1012 7

निर्वास 84 7

वृक्ष निर्वास 84 8

### निर्लज्ज

अरलील 734.19

धृष्ट 734.20

नग्न 590 16

लज्जाहीन 846 8

### निर्लज्जता

अंग प्रदर्शन 590 7

अरलीलता 734 7

लज्जाहीनता 846 1

### निर्लिप्त

अनालेपित 292 14

अनासक्त 366 5

### निर्लिप्तता

अनासक्ति 366 1

### निर्लुचन

छिलका उतराई 542 5

### निर्लेप

अनालेपित 292.14

पापहीन 813 9

सत 790.9

### निर्लोभ

लोभहीन 360 15

संतोषशील 360 19

### निर्लोम

रोमहीन 135.12

### निर्वेश

निस्संतान 240.9

वराजहीन 727 41

वशनष्ट 727 42

### निर्वेशता

निस्संतानता 240 1

वंशजहीनता 727 26

### निर्वचन

वाचाहीन 429 25

शब्द व्युत्पत्ति 423 2

### निर्वचनीय

अपरिभाष्य 317 20

परिभाष्य 317 19

### निर्वचण

आहार वितरण 183.30

### निर्वश

अधिकारहीन 898.3

### निर्वसन

नग्न 590 16

### निर्वसनन

अपरिधानन 590 11

### निर्वस्त्रण

नग्नकरण 590 2

### निर्वहण

उपपादन 328 2

कार्यान्वयन 505 5

### निर्वाकारता

स्थितप्रज्ञता 761.10

### निर्वाचक

घयन कर्ता 1009 19

निर्वाचक 888.5 ⇨

मताधिकारी 888 35

### निर्वाचक गण

निर्वाचक मंडल 888 7

### निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल 888 7 ⇨

### निर्वाचक संघ

निर्वाचक मंडल 888 7

### निर्वाचक सभा

निर्वाचक सभा 888.8 ⇨

### निर्वाचक समष्टि

निर्वाचक समष्टि 888 6 ⇨

### निर्वाचक समूह

निर्वाचक समष्टि 888.6

### निर्वाचक सूची

निर्वाचक सूची 888.9 ⇨

### निर्वाचन

निर्वाचन 888.1 ⇨

### निर्वाचन (दे.)

घयन 1009 2

### निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचन आयुक्त 888.13 ⇨

### निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग 888 12 ⇨

### निर्वाचन क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्र 888 14 ⇨

### निर्वाचन प्रत्यासी

निर्वाचन प्रत्यासी 888.10 ⇨

### निर्वाचन लक्षणा

निर्वाचन लक्षणा 888.29 ⇨

### निर्वाचन विषयक

निर्वाचन विषयक 888.23 ⇨

### निर्वाचनीय

निर्वाचन विषयक 888.33

### निर्वाचित

निर्वाचित 888.34 ⇨

### निर्वाचित करना

निर्वाचित करना 888 31 ⇨

### निर्वाचितता

जन प्रतिनिधित्व 888 24

### निर्वाचित प्रतिनिधि

निर्वाचित प्रतिनिधि 888.11 ⇨

### निर्वाचित सदस्य

जन प्रतिनिधि 888.25

प्रतिनिधि सूची 888 27

### निर्वाचित होना

निर्वाचित होना 888.30 ⇨

### निर्वाण

आत्मानन्द 382 5

उन्मुक्त 1015.9

मोक्ष 257 1

शांति 372 1

सुख 390 2

### निर्वाण त्यागी बुद्ध

बोधिसत्त्व 793.15

### निर्वाण प्राप्त

मोक्षगत 257 7

### निर्वात

निर्वात 1005.4 ⇨

### निर्वातं (प्र)

निर्वातं 1005 4

### निर्वात (प्र)

निर्वातं 1005 4

### निर्वातता

निर्वातता 1005 3 ⇨

निर्वात में प्रकाश गति: एक वर्ष

प्रकाश वर्ष 959.31

### निर्वाण

निवारण 920 4

### निर्वाण

अनिदार्य 919 9

### निर्वास

गघहीन 273 14

### निर्वासक

निर्वासक 870.24 ⇨

### निर्वासन

निर्वासन 870.8 ⇨

### निर्वासन करना

निर्वासित करना 870.17

### निर्वासित

जाति निर्वासित 870.28

निर्वासित 870.25 ⇨

निष्कासित 1092.18

परित्यक्त 1003 4

### निर्वासित [निर्वासिता]

देश निर्वासित 870.27

निर्वासित 870.25

### निर्वासित करना

निर्वासित करना 870.17 ⇨

### निर्वासित कर्ता

निर्वासक 870 24

### निर्वासिता

परित्यक्त पत्नी 804 5

### निर्वाह

कार्य समाप्ति 522.1

काव्य गुण सूची 453 4

निष्ठा निर्वाह 826.2

परस्परता 703.1

परस्पर निर्वाह 702 3

परस्पर निर्वाह 703 3

प्रतिज्ञा पूर्ति 339.19

व्यवहार 828 1

### निर्वाहक

कर्तव्य पालक 895 12

कार्य समापक 522 5

कार्यान्वय कर्ता 505.28

परस्पर निर्वाहक 702 7

### निर्वाह करना

कर्तव्य पालन करना 895 8

परस्पर निर्वाह करना 702 5

### निर्वाहन

आज्ञा पालन 347 6

कार्यान्वयन 505 5

### निर्वाह वृत्ति

भरण पोषण 650 14

### निर्वाह शैली

व्यवहार 828 1

### निर्वाह होना

जीवन निर्वाह होना 625 6

### निर्वाहित

कार्यान्वित 505 27

पालित पोषित 720.19

### निर्वाह्य

साध्य 518 16

### निर्विकल्प

विकल्पहीन 516.5

### निर्विकल्प ज्ञान

निर्विकल्प ज्ञान 761 7 ⇨

### निर्विकार

अनुभूतिहीन 264 19

अपरिवर्तनशील 533 10

अपरिवर्तित 533 9

ईश्वर 764 1

निर्गुण ब्रह्म 764 28

भावहीन 358 29

### निर्विकारता:

भावहीनतः 358.32

### निर्विकारता

अनुभूतिहीनता 264.1

अपरिवर्तनशीलता 533.2

भावहीनता 358.17

### निर्विघ्न

अनिषिद्ध 880.13

अनिषिद्धतः 880.15

अवरोधहीन 1049 13

अवरोधहीनतः 1049.23

विघ्नहीन 1049.14

**निर्विचारी**  
अधिधारक 330.23  
**निर्विण्ण**  
अनासक्त 366.5  
**निर्विन्न**  
भावहीन 358.29  
**निर्विन्नतः**  
भावहीनतः 358.32  
**निर्विन्नता**  
भावहीनता 358.17  
**निर्विरोध**  
अविरोधित 887.12  
आपत्तिहीन 326.21  
विरोधहीन 887.13  
**निर्विरोधता**  
विरोधहीनता 887.4  
**निर्विवाद**  
*निर्विवाद 324.24 ⇨*  
निर्विवादता 324.2  
विरोधहीन 887.13  
**निर्विवादता**  
*निर्विवादता 324.2 ⇨*  
**निर्विवाद होना**  
*निर्विवाद होना 324.18 ⇨*  
**निर्विवेक**  
अधिधारक 330.23  
अविवेकी 302.11  
**निर्विशेष**  
निर्गुण ब्रह्म 764.28  
**निर्वीज**  
कारणहीनत 507.8  
बीजहीन 112.20  
**निर्वीजित**  
वध्नीकृत 238.17  
**निर्वीजीकरण**  
वध्नीकरण 238.7  
**निर्वीरता**  
पुत्रहीन विधवा 804.17  
**निर्वीर्य**  
अबलिष्ठ 159.12  
नपुंसक 238.18  
**निर्वृत्ति**  
निवृत्ति 503.1  
**निर्वैग**  
गतिहीन 1042.12  
**निर्वैगता**  
गतिहीनता 1042.3  
**निर्वैद**  
अनासक्ति 366.1  
खेद 380.1  
भावहीन 358.29  
भावहीनता 358.17  
शांत रस 455.19  
शांति 372.1  
**निर्वैद (शांत)**  
स्थायी भाव सूची 358.4  
**निर्वैदतः**  
भावहीनतः 358.32

**निर्वैदता**  
भावहीनता 358.17  
**निर्वीचक**  
मतदाता 888.17  
**निर्व्यय**  
अनश्वर 37.9  
**निर्हार**  
अपनयन 1053.3  
**निर्हारित**  
अपनीत 1053.13  
**निर्हारी**  
अपनायक 1053.14  
**निर्हेतु**  
कारणहीनत 507.8  
प्रयोजनहीन 509.3  
**निलंबन**  
सेवा निलंबन 853.14  
स्थगन 495.2  
**निलंबित**  
*निलंबित 653.35 ⇨*  
**निलंबित करना**  
*निलंबित करना 653.26 ⇨*  
**निलज्ज**  
लज्जाहीन 846.8  
**निलय**  
गृह 601.1  
भवन 602.7  
**निलिप**  
देवता 772.1  
**निलीन**  
द्रवित 80.6  
विलयित 21.41  
**निवडिया**  
छोटी नौका 1072.13  
**निवार**  
निवारक 920.18  
**निवर्तन**  
पुनरागमन 1093.5  
**निवसन**  
आवासन 618.1  
कटि परिधान 586.1  
**निवह**  
वायु सूची 85.2  
समुदाय 687.1  
**निवाङ्ग**  
*निवाङ्ग 571.24 ⇨*  
**निवाङ्गा**  
छोटी नौका 1072.13  
नौका सूची 1072.3  
**निवातता**  
निरघलता 1038.2  
**निवान**  
खादर 552.5  
जलाशय 18.2  
**निवार**  
धान सूची 187.12  
निवाङ्ग 571.24

**निवारक**  
आपत्ति निवारक 326.22  
*निवारक 920.18 ⇨*  
संरक्षक 908.26  
**निवारक अष्ट**  
योगधर 921.12  
**निवारण**  
आपत्ति निवारण 326.6  
*निवारण 920.4 ⇨*  
प्रहार निवारण 920.3  
रोग निवारण 170.1  
संदेह निवारण 340.7  
**निवारण करना**  
*निवारण करना 920.14 ⇨*  
प्रहार बचाना 920.13  
**निवारण न करना**  
*निवारण न करना 919.7 ⇨*  
**निवारणीय**  
निवार्य 920.19  
**निवारना**  
ऋण मोचन करना 633.29  
निवारण करना 920.14  
निषिद्ध करना 880.6  
प्रहार बचाना 920.13  
भुगतान करना 634.19  
**निवारित**  
*निवारित 920.17 ⇨*  
**निवार्य**  
*निवार्य 920.19 ⇨*  
**निवाला**  
ग्रास 181.26  
**निवास**  
गृह 601.1  
निवासित 616.1  
भवन 602.7  
**निवास करना**  
निवासी होना 616.12  
**निवासन**  
आवासन 618.1  
**निवास न करना**  
निवासी न होना 617.8  
**निवास संयोगः**  
*निवास संयोग 616.2 ⇨*  
**निवासाधिकार**  
आवास अधिकार 622.6  
**निवासिता**  
*निवासिता 616.1 ⇨*  
**निवासी**  
*निवासी 616.13 ⇨*  
**निवासी न होना**  
*निवासी न होना 617.8 ⇨*  
**निवासी होना**  
*निवासी होना 616.12 ⇨*  
**निवास्य**  
आवास योग्य 618.24  
**निविड**  
अगम्य 519.25  
गहन 1004.16

गहन (अंधकार) 286.16  
छिद्रहीन 272.9  
मोटा [मोटी] 965.12  
**निविड अंधकार**  
गहन अंधकार 286.2  
**निविडता**  
गहनता 1004.6  
**निविदा**  
*निविदा 664.8 ⇨*  
**निविदा देना**  
मूल्य निवेदन करना 864.21  
**निविष्ट**  
निवेशित (पूँजी) 628.29  
वेष्टित 592.17  
**निवृत्त**  
*निवृत्त 503.9 ⇨*  
विरक्त 366.6  
**निवृत्त होना**  
*निवृत्त होना 503.6 ⇨*  
**निवृत्तात्मा**  
भैरवक्त 366.6  
**निवृत्ति**  
कार्य समाप्ति 522.1  
तृप्ति 361.5  
*निवृत्ति 503.1 ⇨*  
विरक्ति 366.2  
संकट मोचन 910.1  
सेवा निवृत्ति 653.18  
**निवृत्तिका**  
पेशन 643.32  
**निवृत्तिका भोगी**  
पेशन भोगी 643.33  
**निवृत्ति देतन**  
पेशन 643.32  
**निवेदक**  
उपहार प्रदाता 640.15  
*निवेदक 350.16 ⇨*  
प्रार्थी 350.18  
फरियादी 350.22  
**निवेदन**  
उपहार प्रदान 640.1  
*निवेदन 350.1 ⇨*  
प्रार्थना 350.4  
भूमिका 447.8  
**निवेदन (दे.)**  
याचना 642.1  
**निवेदन करना**  
*निवेदन करना 350.10 ⇨*  
**निवेदन कर्ता**  
निवेदक 350.16  
**निवेदन पत्र**  
*निवेदन पत्र 350.3 ⇨*  
**निवेदित**  
उपहृत 640.13  
*निवेदित 350.15 ⇨*  
**निवेदित मूल्य**  
*निवेदित मूल्य 664.7 ⇨*

## निवेद्य

### निवेद्य

उपहार्य 640 14

### निवेश

पूँजी निवेश 628 11

### निवेशक

पूँजी निवेशक 628 30

### निवेशन

आवासन 618 1

आसन ग्रहण 1028 1

प्रवेशन 1094 3

स्थितन 1020.3

### निवेशित (पूँजी)

निवेशित (पूँजी) 628 29 ⇨

### निवेशन

पिधानन 675 1

### निश

रात 48 1

### निशाँगर

पच्चीकार 406 33

### निशांत

प्रभात काल 47 4

भवन 602 7

रात चौथा पहर 49 9

शयन कक्ष 614 21

### निशा

रात 48 1

### निशाकर

चंद्रमा 8 2

### निशाकांत

चंद्रमा 8 2

### निशाखातिर

निश्चित 378 8

विश्वास 340 1

### निशागृह

शयन कक्ष 614 21

### निशाघर

असुर दानव दैत्य राक्षस 783 2

उल्लू 126 14

पिशाच 786 8

भूत 786 1

राक्षस 784 1

रात्रिघर 48 14

रात्रि पहरेदार 908 10

शिव 767 1

सर्प 123 10

### निशाघरी

अभिसारिका 237 4

भूतनी 786 2

### निशाघरी

रात्रि पहरेदार 908 10

### निशाजल

ओस 90 11

### निशाटक

पिशाच 786 8

सुप्ताटक 267 5

### निशाटन

रात्रिघर 48 14

सुप्ताटन 267 4

### निशात

तीक्ष्ण 270 19

### निशातता

तीक्ष्णता 270 6

### निशाद

निषाद 732 6

राक्षस 784 1

रात्रिघर 48 14

### निशादि

सायकाल 47 13

### निशान

अनुचिह्न 867 6

उंगली निशान 867 2

चिह्न 407 1

घब्बा 217 2

धर्म चिह्न 407 7

ध्वजा 408 4

नगाड़ा 461 58

पदक 857 7

पदचिह्न 867 4

प्रतीक 408 1

प्रतीक चिह्न 408.2

मुद्राक 414 17

लक्ष्य 931 1

लाछन 843 7

सुराग 867 1

### निशानधी

ध्वजा वाहक 408 18

लक्ष्य वेध कर्ता 931 21

### निशानदेही

चिह्नन 407 2

### निशानन

रात पहला पहर 49 7

### निशान पट्टी

हुलिया 317 11

### निशान पर

लक्ष्य पर 931 26

### निशान बरदार

ध्वजा वाहक 408 18

### निशान लगाना

सीमांकन करना 1001 31

### निशाना

लक्ष्य 931 1

लक्ष्य केन्द्र 931 7

### निशाना चूकना

लक्ष्य च्युत होना 931 19

### निशाना ताकना

लक्ष्य साधना 931 15

### निशानाथ

घद्रमा 8 2

### निशाना न लगाना

लक्ष्य च्युत होना 931 19

### निशाना बंधना

लक्ष्य साधना 931 15

### निशाना मारना

लक्ष्य वेधना 931 17

### निशाना लगना

लक्ष्य वेध होना 931 16

### निशाना लगाना

लक्ष्य वेधना 931 17

लक्ष्य साधना 931 15

### निशाना साधना

लक्ष्य साधना 931 15

### निशानी

अनुचिह्न 867 6

चिह्न 407 1

प्रतीक चिह्न 408 2

### निशानी अँगूठा

अँगूठा निशान 444 10

### निशाने पर

लक्ष्य पर 931 26

### निशाने पर बैठना

प्रहार न बघना 919 6

### निशाने पर लगना

लक्ष्य पर जाना 931 18

### निशानेबाज़

लक्ष्य साधक 931 20

### निशानेबाज़ी

लक्ष्य अभ्यास 931 8

लक्ष्य वेध 931 10

### निशापुत्र

तारा 3 2

### निशा पुष्प

कुमुद 14 9

### निशा मणि

चंद्रमा 8 2

### निशाभूग

गीदक 127 75

### निशा रत्न

घद्रमा 8 2

### निशावसान

प्रभात काल 47 4

### निशास्ता

जमा [जमी] 81 18

मौड़ 208 17

स्टार्च 179 11

### निशि

रात 48 1

### निशिकर

घद्रमा 8 2

### निशिघर

उल्लू 126 14

भूत 786.1

राक्षस 784 1

रात्रिघर 48 14

रात्रि पहरेदार 908 10

### निशित

तीक्ष्ण 270 19

### निशितता

तीक्ष्णता 270 6

### निशि दिन

अहोरात्र 46 10

हमेशा 1049 17

### निशानाथ

कपूर 274.14

घद्रमा 8 2

### निशिपाल

रात्रि पहरेदार 908 10

### निशि वासर

अहोरात्र 46 10

### निशीथ

मध्य रात्रि 48 11

रात 48 1

### निशीथिनी

रात 48.1

### निशीशा

घद्रमा 8 2

### निशुभ

असुर सूची 783 8

तोड़फोड़ 539 4

दानव सूची 783 13

दैत्य सूची 783.19

नाश 531.1

वध 251 3

### निशुभन

मारण 251 1

### निशुभ मर्दिनी

दुर्गा 776 7

### निश्चय

निर्णय 328 4

निर्विकल्प ज्ञान 761 7

नैययिक निपटारा 877 11

संकल्प 500.1

समाधान 334 6

### निश्चय करना

निर्णय करना 328.8

### निश्चयतः

संकल्पपूर्वक 500 16

### निश्चयन

आकलन कर्म 947 6

निर्धारण 328 6

संकल्पन 500 2

### निश्चयपूर्वक

अवश्यमेव 68 21

संकल्पपूर्वक 500 16

### निश्चयहीन

विचलनशील 501 12

### निश्चयात्मक

असंदिग्ध 340 19

दुविधाहीन 500.13

### निश्चल

अप्रवाहित (जल) 21 40

अविचल 500 15

निश्चल 1038.8 ⇨

प्रवाहहीन 1041 9

### निश्चल जल

प्रवाहहीन जल 21.12

### निश्चलता

अविचलता 500.5

निश्चलता 1038.2 ⇨

### निश्चलन

निश्चलन 1038.3 ⇨

### निश्चल रहना

निश्चल रहना 1038.6 ⇨



निश्चल होना	छलहीन 815 8	निश्चेष	वीटो 329 10
निश्चल होना 1038 5 ⇨	सत्यतापूर्ण 820 20	अनवशिष्ट 954 18	निषेधक
निश्चायक	निश्चलता	निश्चोक्त	निषेध कर्ता 880 11
असदिग्ध 340 19	छलहीनता 815 3	निश्चित 378 8	निषेध करना
निर्णयात्मक 328.11	निश्छेद	शोकहीन 382 24	निषिद्ध करना 880 6
निश्चायकता	अभाज्य संख्या 943 13	निश्चोकता	निषेध कर्ता
निर्णायकता 328 5	निश्वास	शोकहीनता 382 9	निषेध कर्ता 880 11 ⇨
निश्चित	आह 386 4	निश्चोक्त	निषेधक घोट
निश्चित 378 8 ⇨	दीर्घ श्वास 245 8	शोभाहीन 226 12	वीटो 329 10
सदेहहीन 340 20	निश्चांक	निष्पन्न	निषेध न होना
निश्चिततः	अनाशकित 378 7	तलवार 924 7	निषेध न होना 880 8 ⇨
निश्चितता 378 10 ⇨	अनिषिद्धत 880 15	निष्पण	निषेधपूर्ण
निश्चितता	अवश्यमेव 68 21	उठ बैठा 1029 10	निषेधात्मक 880 10
निश्चितता 378.2 ⇨	सदेहहीन 340 20	निषद	निषेध प्रकाश
निश्चित निद्रा	साहसी 394 13	निषाद स्वर 459 13	लाल बत्ती 1067 14
सुख निद्रा 266 5	सुरक्षित 908 27	निषदन	निषेधवाद
निश्चित	निश्चांकतः	आसन ग्रहण 1028.1	नास्तिकतावाद 760 14
अनुबाधित 339 32	सदेहहीनत 340 23	निषाद	निषेधहीन
आरक्षित 660 20	साहसपूर्वक 394 18	निथरा [निथरी] 1031 33	अनिषिद्ध 880 13
तय (सौदा) 658 14	निश्चांकता	निषाद 732 6 ⇨	निषेधहीनता
नियत 68 16	अनाशका 378 1	निषाद स्वर 459 13	अनिषेध 880 2
निर्णीत 328 12	भयहीनता 394 7	पनडुब्बा 483 15	निषेधाज्ञा
निर्धारित 328 14	सदेहहीनता 340 6	सप्तक स्वर सूची 459 6	निषेधाज्ञा 880 3 ⇨
निर्विवाद 324 24	निश्शत्रु	निषाद और चार आर्य वर्ण	निषेधात्मक
मात्रा मे नियत 946 17	शत्रुहीन 706 17	पंचजन 731 5	निषेधात्मक 880 10 ⇨
सकल्पित 500 10	निश्शत्रुता	निषाद राज	निषेधा
सपुष्ट 337 25	शत्रुहीनता 706 3	गुहाराज 770 26	अनुरक्ति भाव 752 11
ससंख्य 942 22	निश्शब्द	निषाद राजकुमार	निष्कटक
सुनिर्धारित 328 17	ध्वनिहीन 295 4	एकलव्य 771 45	अनाशकित 378 7
स्पष्ट 822 20	ध्वनिहीनत 295 6	निषाद स्वर	अवरोधहीन 1049 13
निश्चित करना	मौनता 429 29	निषाद स्वर 459 13 ⇨	कटकहीन 115 16
निर्णय करना 328 8	निश्शब्दता	निषादी	दुषिधाहीन 500 13
निश्चित क्रम	ध्वनिहीनता 295 1	महावत 1082 15	शत्रुहीन 706 17
रूटीन 514 6	निश्शाम	निषिद्ध	निष्कट
निश्चिततः	उद्धिगता 377 4	अनुमाने अदत्त 338.35	वाचाहीन 429 25
स्पष्टतः 822 32	निश्शाल्य	अनैतिक 816 4	निष्कपट
निश्चितता	कटकहीन 115 16	धर्म निषिद्ध (आहार) 198 12	छलहीन 815 8
नियतता 68.8	निश्शस्त्र	निषिद्ध 880 12 ⇨	निष्कपटता
निर्विवादता 324 2	शस्त्रहीन 930 7	प्रदेश निषिद्ध 1094 28	छलहीनता 815 3
स्पष्टता 822 1	निश्शस्त्रीकरण	निषिद्ध आहार	निष्कर
निश्चित संख्या	अशस्त्रीकरण 906.9	धर्म निषिद्ध आहार 198 5	करमुक्त 647 42
निश्चित संख्या 949.3 ⇨	निश्शस्त्रीकृत	निषिद्ध करना	निष्कर्म
निश्चिति	अशस्त्रीकृत 906 17	निषिद्ध करना 880 6 ⇨	ईश्वर 764 1
दुषिधाहीनता 500 4	निश्शील	निषिद्ध काम छोड़ना	निष्कर्ष
निश्चेतन	अश्लील 734 19	निषिद्ध काम छोड़ना 880 7 ⇨	उपपत्ति 328 1
चेतनाहीन 264 20	असम्य 734 14	निषिद्ध क्षेत्र	निर्णय 328 4
निश्चेतनता	निश्शीलता	निषिद्ध क्षेत्र 1094 12 ⇨	निष्कर्ष 84.1 ⇨
मूर्च्छा 264 5	अश्लीलता 734 1	निषिद्ध न होना	सारांश 449 12
निश्चेष्ट	असम्यता 734 1	निषेध न होना 880 8	निष्कर्षक
अप्रयत्नशील 490.9	निश्शुक्र	निषिद्ध मार्ग	निष्कर्षक 83 15 ⇨
विरामित 1048 6	नपुंसक 238 18	निजी मार्ग 1063 7	निष्कर्षण
स्फूर्तिहीन 492 14	निश्शुल्क	निषेचन	उन्मूलन 548.28
निश्चेष्टता	निश्शुल्क 665.8 ⇨	गर्भदान 241 1	निष्कर्षण 83.1 ⇨
अप्रयत्न 490.1	निश्शुल्कतः	छिड़काव 668.7	निष्कर्षः प्रकार सूची 84.2 ⇨
निश्चयावन	निश्शुल्कत 665 9 ⇨	निषेध	निष्कर्ष प्रकार सूची 84.2 ⇨
निष्काथन 195 40	निश्शुल्कता	अनुमति 338 3	निष्कर्षित
निश्छल	निश्शुल्कता 665.3 ⇨	निषेध 880.1 ⇨	उपपन्न 328.10
ईमानदार 815.7		निषेधाज्ञा 880 3	निष्कर्षित 83.14 ⇨

## निष्कर्षित करना

### निष्कर्षित करना

निष्कर्षित करना 83.11 ⇨

### निष्कलंक

अपराध मुक्त 869 9  
उज्वल 218 37  
परिपूर्ण 313 14  
परिष्कृत 537.9  
स्वच्छ 218 33

### निष्कलंकता

परिपूर्णता 313 5

### निष्कल

अविभक्त 698 11

### निष्कलन

निर्गमन 1092.2

### निष्कलुष

अपराधहीन 861 16  
परिपूर्ण 313 14  
पापहीन 813 9

### निष्कलुषता

परिपूर्णता 313 5

### निष्कवाथ

ऋहया 208 18

### निष्काम

अनासक्त 366 5  
इच्छाहीन 360.9  
ईश्वर 764 1  
कर्मफल त्यागी 504 21  
कामहीन 237 17  
निष्काम कर्मी 504 19

### निष्काम कर्म

निष्काम कर्म 504.6 ⇨

### निष्काम कर्मी

कर्मफल त्यागी 504 21  
निष्काम कर्मी 504 19 ⇨

### निष्कामता:

इच्छाहीनता 360 21

### निष्कामना

इच्छाहीनता 360 1

### निष्कारण

कारणहीनता 507 8

### निष्कालक

निष्कासक 1092 19

### निष्कालन

निर्वासन 870 8  
निष्कर्षण 83 1  
निष्कासन 1092 10

### निष्कालिक

अल्पायु 229 18

### निष्कालित

निष्कर्षित 83 14

### निष्कासक

निर्वासक 870.24  
निष्कासक 1092 19 ⇨

### निष्कासन

जाति निर्वासन 870 11  
निर्वासन 870.8  
निष्कासन 1092 10 ⇨  
विस्थापन 1036.4

सेवा द्युति 853.15

### निष्कासित

जाति निर्वासित 870 28  
दुतकृत 855 15  
निष्कासित 1092.18 ⇨  
विस्थापित जन 1036.5

### निष्कासित [निष्कासिता]

निर्वासित 870.25

### निष्कासित करना

निर्वासित करना 870 17

### निष्कासिता

परित्यक्त पत्नी 804 5

### निष्कीटक

विसंक्रामक 170 9

### निष्कुलीन

अकुलीन 728.16

### निष्कूट

छलहीन 815 8

### निष्कृत

दुतकृत 855 15

### निष्कृति

पाप प्रायश्चित्त 813.4

### निष्कृष्ट

निष्कर्षित 83.14

### निष्क्रम

निर्गम 1092.1

### निष्क्रमण

गमन 1091.1  
निर्गमन 1092 2  
वानप्रस्थाश्रम प्रदेश 233 5  
सोलह संस्कार सूची 798.3

### निष्क्रमणशील

निर्गमनशील 1092.16

### निष्क्रमण संस्कार

निष्क्रमण संस्कार 798 15 ⇨

### निष्क्रमित

निर्गमित 1092 15

### निष्क्रम्य

प्रत्युपकार 832 3

### निष्क्रांत

निर्गमित 1092.15  
निर्वासित 870.25

निष्कासित 1092.18

### निष्कामक

निष्कासक 1092.19

### निष्कामण

निष्कासन 1092 10

### निष्कामित

अपाङ्कत 862.9

निष्कासित 1092 18

विस्थापित 1036.13

### निष्क्रिय

अप्रयत्नशील 490 9  
गतिहीन 1042 12  
निश्चल 1038 8  
शिव 767 1  
स्फूर्तिहीन 492 14

### निष्क्रिय करना

विराम करना 1048.4

### निष्क्रिय खाता

निष्क्रिय खाता 631.9 ⇨

### निष्क्रियण

विरामण 1048.2

### निष्क्रियता

अप्रयत्न 490.1  
गतिविधिहीनता 503 5  
गतिहीनता 1042 3  
स्फूर्तिहीनता 492 3

### निष्कवाथन

निष्कवाथन 195.40 ⇨

### निष्कृष्टीकरण

काम बाण सूची 773.17

### निष्दि

दिति 787.16

### निष्द

अविचल 500 15  
आधारित 1019 17  
आसक्त 365 5  
उद्यत 491 15  
धैर्यशील 394 15  
ध्यानमग्न 331 11  
निष्ठावान 826.9  
प्रवृत्तिशील 502.9  
स्थित 1020 8

### निष्दतः

दायित्वपूर्वक 895 13

### निष्दता

तथ्यात्मकता 820.15  
निष्ठा निर्वाह 826.2

### निष्ठा

आधारितता 1019 1  
आस्था भाव 752 13  
कर्तव्य पालन 895 5  
दृढ़मतता 343 2  
धैर्य 394 6  
निष्ठा 826.1 ⇨  
प्रेम 368 1

भक्ति 752 1

विवाह निष्ठा 805 1

विश्वास 340 1

श्रद्धा 340.5

संकल्प 500 1

### निष्ठा (दे.)

पूर्ण आशा 375 3

### निष्ठा निभाना

निष्ठा निभाना 826.8 ⇨

### निष्ठा निर्वाह

निष्ठा निर्वाह 826.2 ⇨

### निष्ठा परिवर्तन

दल बदल 885 18

### निष्ठा पालक

निष्ठावान 826.9

### निष्ठा पालन

निष्ठा निर्वाह 826 2

### निष्ठापूर्ण

धैर्यशील 394.15

### निष्ठा बदलना

निष्ठा बदलना 827.10 ⇨

### निष्ठा बेचना

निष्ठा बेचना 827.11 ⇨

### निष्ठागु

भक्त 752 2

### निष्ठावान

अविचल 500.15  
निष्ठावान 826.9 ⇨  
भक्त 752 2

### निष्ठावानता

निष्ठा 826.1

### निष्ठा विक्रय

निष्ठा विक्रय 827.2 ⇨

### निष्ठा विक्रेता

निष्ठा विक्रेता 827 17 ⇨

### निष्ठाहीन

निष्ठाहीन 827.16 ⇨  
विचलनशील 501 12

### निष्ठाहीन (प्रेमपात्र)

निष्ठाहीन (प्रेमपात्र) 369 9 ⇨

### निष्ठाहीनता

निष्ठाहीनता 827.1 ⇨

### निष्ठित

अविचल 500 15  
आधारित 1019.17

### निष्ठीव

शुक् 215 22

### निष्ठुर

कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8  
निर्दय 835 10

### निष्ठुरता

निर्दयता 835 2  
हिंसा 251 15

### निष्णात

प्रवीण 303 22  
विद्वान 319.8

### निष्णात उपाधि

निष्णात उपाधि 322.29 ⇨

### निष्पंक

स्वच्छ 218.33

### निष्पक्व

पक्व 195.77

### निष्पक्ष

अपक्षधर 887.9  
पक्षपातहीन 887.10

### निष्पक्षता

अपक्षधरता 887.1  
पक्षपातहीनता 887.2

### निष्पक्ष भार मापी

पंचायती तराजू 962.12

### निष्पत्ति

उपपत्ति 328 1  
कर्तव्य पालन 895.5  
कार्य समाप्ति 522.1  
कार्यान्वयन 505.5

रस परिपाक 455.7	अनुपयोगी 525.8	निद्राहीन 265.9	अस्पष्टता 823 1
रसानुभूति 455.4	प्रयोजनहीन 509.3	सावधान 497 4	गौरवहीनता 850 2
निष्पन्न	निष्प्रयोजनता:	निस्सब्ध	धुँधलापन 286 8
पंखहीन 153.21	प्रयोजनहीनता 509 5	ध्वनिहीन 295.4	विवर्णता 289.23
निष्पन्न	निष्प्रयोजनता	स्तम्भ कृत 758 42	शोभाहीनता 226 3
उपपन्न 328 10	प्रयोजनहीनता 509.1	निस्सब्धता	स्फूर्तिहीनता 492 3
कार्यान्वित 505 27	निष्प्राण	ध्वनिहीनता 295.1	निस्सोजा
कृत 505.20	अजीवित 247.8	निस्तरण	गौरवहीन 850 6
समाप्त (कार्य) 522 4	निष्फल	पार तरण 1097 3	निस्संद
निष्परिग्रह	अफलित 118 17	निस्तरना	निरघल 1038 8
अपरिग्रही 360 18	असफल 513.4	पार जाना 1097 9	स्पद 1039 1
निष्पादक	निवारित 920.17	पार तरना 1097 10	निस्संबता
कार्यान्वय कर्ता 505 28	प्रतिफलहीन 510.14	निस्साल	निरघलता 1038 2
निष्पादन	फलहीन 116 12	अगाध्य 984 10	निस्पृह
उपपादन 328 2	लाभहीन 649 12	निस्तार	इच्छाहीन 360.9
करण 505.1	निष्कलता	असुर वध 251 4	लोभहीन 360 15
कार्यान्वयन 505.5	असफलता 513 1	उबराई 1030 6	निस्पृही
निष्पादित	लाभहीनता 649.4	कार्य समाप्ति 522 1	अनिच्छुक 360.12
उपपन्न 328 10	निष्कल निवेदन	परस्पर निर्वाह 702.3	निस्क
कार्यान्वित 505 27	अरण्य रोदन 350 7	पार तरण 1097.3	आघा 949.37
कृत 505 20	निष्कला	मोक्ष 257 1	निस्की बैंटाई
समाप्त (कार्य) 522 4	रज निवृत्ता 130.14	संकट मोघन 910 1	बैंटाईदारी 553 21
निष्पाद्य	निसरना	निस्सारक	निस्वत
साध्य 518 16	निकलना 1092 11	उन्मोघक 1015 10	प्रयोजन 508 1
निष्पाद्यता	बाहर होना 999 9	उबारने वाला 1030.27	सन्ध 715 1
साध्यता 518 4	निसराना	पार उत्सारक 1097 17	संबंधत 715 14
निष्पाप	बाहर करना 999 10	निस्सारण	सापेक्षता 309 2
पापहीन 813 9	निसर्ग	पार उत्सारण 1097 4	निस्वतन
निष्पापता	प्रकृति 762 1	निस्सारण करना	तुलना मे 309 23
पापहीनता 813 1	ब्रह्मांड 1 1	अपराध मुक्त करना 869 6	निस्वती
निष्पाव	स्वर्ग 259 1	निस्सारना	तुलनात्मक 309 16
ओसाई 548 22	निसर्गायु	पार उत्तरना 1097 11	प्रयोजनार्थी 508.7
निष्पावी	ग्रहदाय 261 24	संकट दूर करना 910 6	निस्स्यंदन
लोबिया 189 33	निर्सास	निस्सारित	आसवन 82 1
निष्पिष्ट	दीर्घ श्वास 245 8	उबारा [उबारी] 1030 26	स्त्रावण 83 4
मर्दित 911 10	निसार	निस्सीर्ण	निस्स्यंदी
निष्पीकक	बलिदत्त 754 21	उन्मुक्त 1015 9	स्त्रावशील 1032 27
पीड़ाहर 392 27	वारफेर 710 12	उबारा [उबारी] 1030 26	निस्सार्थ मित्र
निष्पीकन	निसार होना	पार तरित 1097 16	निस्सार्थ मित्र
निष्कर्षण 83.1	आत्मबलि देना 754 19	संकटमुक्त 910 9	निस्सार्थ मित्रता
निष्पीरुष	निसारा	निस्सीर्णता	निस्सार्थ मित्रता 705.9 ⇨
नपुंसक 238 18	ईसाई धर्मावलंबी 736 17	पारगम्यता 1097 5	निस्सार्थ मित्र होना
निष्प्रताप	निस्सि	निस्सुष	निस्सार्थ मित्र होना 705.20 ⇨
प्रतापहीन 850 7	रात 48 1	छिलका उतरा 542.19	निस्सेव
निष्प्रतिभ	निस्सिधर	निस्सेज	स्वेद 215 3
प्रतिभाहीन 302 12	रात्रिधर 48.14	अतेजस्वी 839 10	निस्संकोच
निष्प्रभ	निस्सीदी	अप्रबल 488 14	सकोचहीनता 846 9
अंधकारपूर्ण 286.14	फोक 526 2	अबलिष्ठ 159.12	निस्संकोच देना
अबलिष्ठ 159 12	निस्सुद	अस्पष्ट 823 11	निस्संकोच देना 638.9 ⇨
आलोककृत 286 15	दत्त्य सूची 783 19	आलोककृत 286 15	निस्संख्य
धुँधला [धुँधली] 286.17	निस्सुदन	गौरवहीन 850 6	असंख्य 944 8
विवर्ण 291 18	मारने वाला 251 26	धुँधला [धुँधली] 286.17	निस्संग
निष्प्रभता	निस्सुत	विवर्ण 291.18	अनासक्त 366 5
धुँधलापन 286 8	निष्कर्षित 83 14	शक्तिहीन 488 10	एकाकी 697 14
निष्प्रभाव	निस्सीनी	शोभाहीन 226 12	कर्मफल त्यागी 504 21
असफल 513.4	सीढ़ी 613 6	स्फूर्तिहीन 492 14	कामहीन 237.17
निष्प्रयोजन	निस्संग	निस्सेजता	मित्रहीन 705.29
अनावश्यक 525 9	आलस्यहीन 493 12	अतेजस्वित 839 6	

## निस्संज्ञ

### निस्संज्ञ

- चेतनाहीन 264.20  
चेतनाहृत 264.21  
निस्संज्ञित 264.25  
मूर्च्छित 264.23

### निस्संज्ञ करना

निस्संज्ञ करना 174.23 ⇨

### निस्संज्ञता

चेतनाहीनता 264.2

### निस्संज्ञित

निस्संज्ञित 174.25 ⇨

### निस्संज्ञीकरण

निस्संज्ञीकरण 174.7 ⇨

### निस्संतान

निस्संतान 240.9 ⇨

### निस्संतानता

निस्संतानता 240.1 ⇨

### निस्संदेह

- प्रवरयमेव 68.21  
अवरयमेव उक्ति सूची 68.23  
सदेहहीन 340.20  
सदेहहीनत 340.23

### निस्संदेहहृत्

सदेहहीनत 340.23

### निस्संदेहता

सदेहहीनता 340.6

### निस्संधि

युतिहीन 1010.25

### निस्साप्य

- अप्रबल 488.14  
अभावग्रस्त 627.17  
नगण्य 853.10

### निस्साप्यत्व

शत्रुहीन 706.17

### निस्सारण

- गमन 1091.1  
निर्गमन 1092.2

### निस्साहाय

- अनाथ 719.5  
असहाय 701.8  
विवश 901.11

### निस्सादन

निथरन 1031.14

### निस्सादित

निथरा [निथरी] 1031.33

### निस्सार

- अबलिष्ठ 159.12  
अर्थहीन 426.28  
क्षमताहीन 488.15  
सारहीन 84.20

### निस्सारक

जूसर 83.6

### निस्सारण

- निष्कर्षण 83.1  
सावण 83.4

### निस्सार पदार्थ

छँटन 526.10

### निस्सारित्र

जूसर 83.6

### निस्साहस

कापुरुष 395.29

### निस्सीम

- असंख्य 944.8  
असीम 1001.34  
निराकार 967.13

### निस्सीमता

- असंख्यता 944.3  
असीमता 1001.3  
निराकारता 967.2

### निस्स्पृह

लोभहीन 360.15

### निस्स्वार्थ

स्वार्थहीन 712.18

### निस्स्वार्थता

स्वार्थहीनता 712.7

### निहंग

- अनासक्त 366.5  
अविवाहित 234.13  
एकाकी 697.14  
कामहीन 237.17  
नम्र 590.16  
निहंग सिख 737.24  
लज्जाहीन 846.8

### निहंग सिख

निहंग सिख 737.24 ⇨

### निहंता

मारने वाला 251.26

### निहटा

- कुटाई ठीहा 596.13  
टेक धूनी 596.4  
ठीहा 596.12

### निहत

- आहत 168.6  
नल्थीकृत 417.15  
मारा [मारी] 251.23

### निहत्था [निहत्थी]

शरत्रहीन 930.7

### निहल

नदी परित्यक्त भूमि 25.5

### निहाई

ठीहा 596.12

### निहाका

समुद्री तूफान 85.9

### निहायत

अत्यधिक 944.7

### निहार

अवलोकन 284.1

### निहारना

- ताकना 284.41  
दर्शन करना 749.48  
देखना 284.30  
प्रतीक्षा करना 1057.5

### निहाल

अति आनंदित 382.20  
तृप्त 361.16

पूर्णच्छ 361.13

पीद 113.5

पीघा 111.14

सफल 512.6

### निहालघा

शिशु गदा 593.40

### निहाली

- गदा 593.39  
रजाई 593.15

### निहित

- आतंरिक 999.12  
आधारित 1019.17  
सिपुर्द 638.18  
स्थित 1020.8

### निहित अर्थ

अंतर्निहित अर्थ 426.8

### निहिलिज्म (अँ)

शून्यवाद 760.25

### निहोरा

- उपकार 832.1  
दया 834.1  
निवेदन 350.1  
फरियाद 350.9  
शरण 910.4

### निहोरे

कारणत 507.7  
संबधत 715.14

### नींद

निद्रा 266.1

### नींद आना

सोना 266.11

### नींद न आना

- आतुर प्रतीक्षा करना 1057.6  
सो न पाना 265.6

### नींद मे चलना

सुप्ताटन करना 267.8

### नींदरी

निद्रा 266.1

### नींद से उठना

जागना 265.5

### नींब

नीम 13.12

### नींब

नींबे 607.12

### नी

निषाद रवर 459.13

### नीक

उत्तम 313.11

### नीक लगना

शोभान्वित होना 226.7

सुखद लगना 390.9

### नीका [नीकी]

उत्तम 313.11

सुंदर 157.7

### नीकाश

समरूप 967.20

### नीके

विधिपूर्वक 514.19

सुरक्षितत 908.29

### नीम्रो जातियाँ

काली जाति 730.9

### नीम्र

नेमि 1077.8

### नीच

- अकुलीन 728.16  
अधम 840.4  
दुर्जन 818.5  
नगण्य 853.10  
निकृष्ट 314.5  
पापी 812.12  
लज्जाहीन 846.8  
लफंगा 811.8  
व्यभिचारी 806.10

### नीच आचरण

अधमता 840.1

### नीच ऊँच

उन्नति अवनति 532.3

### नीच कमीन

निम्न जन 728.11

### नीचकर्मा

अधम 840.4

### नीचग

जल 88.1

### नीचता

- अकुलीनता 728.9  
अधमता 840.1  
दुर्जनता 818.1  
निम्नता 983.1  
लज्जाहीनता 846.1

### नीच पुरुष

अधम पुरुष 840.3

### नीचयोनि

निम्न वर्णीय 731.33

### नीच वर्ण

निम्न वर्ण 731.9

### नीचरथ

निम्न 983.5

### नीच स्वर

स्वर अलकार सूची 465.11

### नीचा [नीची]

- अकुलीन 728.16  
अधम 840.4

अप्रतिष्ठित 850.5

अत्योच्च 982.9

अवनमित 1025.8

दलानयुक्त 989.10

निकृष्ट 314.5

निम्न 983.5

नीचा [परिधान] 583.25

### नीचा [परिधान]

नीचा [परिधान] 583.25 ⇨

### नीचाई

अत्योच्चता 982.2

निम्नता 983.1

### नीचाई पर

'निम्नत' 983.6

- नीचा कुल  
निम्न कुल 728 8
- नीचा दिखाना  
जीतना 912.12
- नीचाशय  
अधम 840 4  
दुर्जन 818 5
- नीची एकी  
नीची एकी 588.29 ⇌
- नीचू  
नितल मे 985 20  
निम्नत 983 6
- नीचे  
आयोजन मे 655 25  
गहरे 984 11  
दस दिशा सूची 29 7  
नितल मे 985 20  
निम्नत 983 6  
पराधीनत 901 12
- नीचे आना  
अवरोहण करना 1081 47
- नीचे उतरना  
नीचे उतरना 1031 17 ⇌
- नीचे ऊपर  
आरोहत 991 29
- नीचे कहा  
अधोलिखित 430 22
- नीचे का जवड़ा: अस्थि  
नीचे का जवड़ा: अस्थि 133.10 ⇌
- नीचे की ओर  
अधोमुखतः 1023.18  
निम्नत 983 6
- नीचे की दिशा  
निम्न दिशा 983.2
- नीचे को तिरछा होना  
अवनमित होना 1025 6
- नीचे खिचा [नीचे खिची]  
अधोकर्षित 1062.39
- नीचे खींचना  
नीचे खींचना 1062.29 ⇌
- नीचे खींचना: कर्म  
अधोकर्षण 1062 21
- नीचे जाता चक्र  
अवचक्र 973 7
- नीचे जाना  
सूचना 1031 20  
नीचे उतरना 1031.17
- नीचे फेंकना  
नीचे फेंकना 1052 18 ⇌
- नीचे फेंकना: कर्म  
अधोक्षेपण 1052 12
- नीचे बैठना  
निष्चरना 1031.23
- नीचे रखना  
धरना 1019.10
- नीचे रखना: कर्म  
आधारण 1019.5
- नीचे लाना  
अधोवहन करना 1062.27
- नीचे लाना: कर्म  
अधोवहन 1062 19
- नीचे ले जाने वाला  
अधोवाहक 1062 37
- नीचे लोग  
निम्न जन 728 11
- नीचे से उठाना: कर्म  
उद्ग्रहण 1062 12
- नीचे से ऊपर क्रम  
आरोह क्रम 991 3
- नीचे से सहारा दे कर उठाना  
प्रोत्तभन करना 1062 25
- नीड़  
नीड़ 603 3 ⇌  
पलग 594 10  
यान बैठका 1076 15  
शरण 910 4
- नीड़ (दे.)  
गृह 601 1
- नीड़ज  
पक्षी 126 1
- नीड़जा  
मादा पक्षी 126 2
- नीड़ल (अँ)  
ग्रामोफोन सूई 300 15
- नीत [नीता]  
आनीत 1053 10
- नीत होना  
पहुँचना 1053 8
- नीति  
उपाय 517 3  
कार्य नीति 517.6  
कार्य विधि 514 1  
कूटनीति 819 1  
युक्ति 517 1  
योजना 520 1  
राजनीति 884.1  
लोक व्यवहार नियम 878 2  
व्यवहार 703 2  
व्यवहार 828 1
- नीतिकुशल  
नकुल 771.68  
नीतिज्ञ 517.13
- नीति कौशल  
कूटनीति 819.1
- नीतिगत  
नीतीय 517 12
- नीतिगामी  
सच्चरित्र 810.5
- नीति षण्ड्य  
नीति षण्ड्य 819.2 ⇌
- नीति षण्ड्य सूची  
नीति षण्ड्य सूची 819.3 ⇌
- नीतिज्ञ  
नीतिज्ञ 517.13 ⇌  
नैतिकता ज्ञानी 815 6
- व्यवहार कुशल 828.10
- नीतिज्ञता  
नीतिज्ञता 517 7 ⇌
- व्यवहार कुशलता 828 3
- नीतिनिपुण  
नीतिज्ञ 517 13
- नीति पर चलना  
नीति पालना 517.9
- नीति पालन करना  
नीति पालना 517 9
- नीति पालना  
नीति पालना 517 9 ⇌
- नीतिमान  
राजनयिक 443 15  
सच्चरित्र 810 5
- नीति मार्ग गमन  
सच्चरित्रता 810.2
- नीतियुक्त  
नैतिकतापूर्ण 815 5
- नीतियुक्तता  
नैतिकता 815 1
- नीतिवान [नीतिवती]  
व्यवहार कुशल 828 10
- नीतिहीनता  
अनैतिकता 816 1
- नीतीय  
नीतीय 517 12 ⇌
- नीचू  
नीचू 189.24 ⇌  
साग सब्जी सूची 189 4
- नीचू पानी  
शिकजबीन 208 7
- नीचू शरबत  
शिकंजबीन 208 7
- नीम  
आधा 949 37  
काष्ठ सूची 597 2  
नगर वृक्ष सूची 13.2  
नीम 13.12 ⇌
- नीमआस्तीन कमीज़  
टी शर्ट 585 32
- नीम चक्का [नीम चकी]  
बहुत कड़वा 276 8
- नीमचा  
खड़ा 924 2
- नीमटर  
अल्प शिक्षित 321 43
- नीम दरवाज़ा  
विकट कपाट 609 7
- नीम: फल  
निबोली 190.23
- नीमस्तीन  
आघी बॉह कुरता 585 34
- नीम हकीम  
अनाकी चिकित्सक 171.14  
अल्पज्ञ 306 17  
अल्प शिक्षित 321.43
- नीम हकीमी  
अल्पज्ञता 306 7
- नीमा  
नीमा 587.11 ⇌
- नीमास्तीन  
आघी बॉह कुरता 585 34
- नीयत  
इच्छा 359 1  
प्रयोजन 508 1  
लालसा 359 5
- नीर  
जल 88 1  
रस 84 3  
वृक्ष निर्यास 84.8
- नीर क्षीर मिश्रण  
नीर क्षीर मिश्रण 1008.3 ⇌
- नीरज  
कमल 14 4  
जलज 88 24  
मोती 97 2  
शिव 767 1
- नीरजी  
क्लोरीन 86 5
- नीरद  
जलद 88 25  
मेघ 55 1
- नीरधि  
समुद्र 24 1
- नीरपति  
वरुण 773 43
- नीर भरा  
वर्षद 54 23
- नीरव  
ध्वनिहीन 295 4
- नीरवता  
ध्वनिहीनता 295 1
- नीरस  
अपठनीय 401 12  
अरसिक 838 15  
अरोचक 401 10  
अस्वादित 275 21  
जलहीन 89 11  
मनोरजनहीन 469 14  
रसहीन 84 18  
रुखा [रुखी] 197 24  
शुष्क 89 9  
स्वादहीन 275 16
- नीरसता  
अरसिकता 838.7  
अरोचकता 401 1  
जलहीनता 89 4  
मनोरजनहीनता 469 3  
स्वादहीनता 275.5
- नीरा  
ताड़ निर्यास 84 9
- नीराजन  
आरती 749 28  
शस्त्र मार्जन 929.6

## नीराजना

नीराजना  
आरती करना 749 44  
शस्त्र मार्जन करना 929 8

नीरिद  
नीसादर 87 14

नीरोग  
धिकित्सित 17 i 19  
स्वस्थ 161 5

नीरोगकर  
स्वास्थ्यप्रद 161 6

नीरोपिता  
स्वस्थता 161 3

नीलंगु  
भ्रमर 122.33

नील  
आकाश 2.1  
कुबेर नवनिधि सूची 779 12  
नील 781.12 ⇨  
नीलगिरि 17 4  
नील निर्यास 220 24  
नीला 289 49  
वर्णाली रंग सूची 289 9  
वानर सूची 781 7

नील अश्वक  
पिदा 126 50

नीलकंठ  
खंजन 126 24  
नीलकंठ 126.46 ⇨  
मोर 126 68  
शिव 767 1

नील कमल  
कामदेव. पुष्य बाण सूची 773 19  
नील कमल 14.5 ⇨

नीलकांत  
विष्णु 768 1

नीलकांत मणि  
नीलम 96 12

नीलगिरि  
नीलगिरि 17 4 ⇨  
भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17.1

नीलप्रीव  
शिव 767.1

नीलज  
वर्मलोह 93 14

नील तरु  
नारियल 13 11

नील निर्यास  
नील निर्यास 220.24 ⇨

नील निलय  
आकाश 2 1

नीलपिच्छ  
बाण गिद्ध 126 29

नीलपीत  
हरा 289 69

नीलम  
नयरत्न सूची 96 7  
नीलम 96 12 ⇨  
रत्न सूची 96.5

नीलम परी  
परी सूची 782 5

नील माष  
राजमाह 188 16

नील भूर्जिका  
काली मिट्टी 100 11

नीललोह  
वर्तलोह 93 13

नील शिबु  
सहजन 13.24

नीलसेतु  
रामः पुल 1065 13

नीलांबर  
नीला वस्त्र 578 20  
पिशाच 786 8

नीलाराम  
बलराम 771 74  
राक्षस 784 1

शनि ग्रह 7 8

नीलांबुज  
नील कमल 14 5

नीला  
नीला 289.49 ⇨

नीला [नीली]  
नीला 289.49

नीला कंच  
गहरा नीला 289 50

नीला कौंच  
गहरा नीला 289 50

नीलाकाश  
आकाश 2 1

नीलाघल  
नीलगिरि 17.4

नीलातिरक्त  
मुद्रण लाल 289 64

नीलापन  
नीलिमा 289.14

नीला पीला [नीली पीली]  
हरा 289.69

नीलाभता  
नीलिमा 289 14

नीलाम  
नीलाम 659 8 ⇨

नीलाम करना  
नीलाम करना 659.16 ⇨

नीलाम कर्ता  
नीलाम व्यवसायी 659.9

नीलाम घर  
नीलाम घर 659.10 ⇨

नीलाम बोली  
नीलाम बोली 659.11 ⇨

नीलाम व्यवसायी  
नीलाम व्यवसायी 659.9 ⇨

नीलामी  
नीलाम 659.8

नीलाम बोली 659 11

नीलारुण  
बैंगनी 289 56

नीला वस्त्र  
नीला वस्त्र 578.20 ⇨

नीला सौभाग्य  
नीलम 96 12

नीलिमा  
नीलिमा 289.14 ⇨

नीली  
नील निर्यास 220 24

नीलोत्पल  
नील कमल. 14.5

नीलोपल  
नीलम 96.12

नीलोकण  
नील कमल 14 5

नीई  
आघार 596.1  
आघार सूची 596 2

आरभिक अवस्था सूची 994 23

निम्नता उपमान सूची 983 7

नीई 607.12 ⇨

नीई डालना  
संस्थापित करना 693.5

नीई: पत्थर  
नीई: पत्थर 607.13 ⇨

नीई रखना  
संस्थापित करना 693 5

नीई रखाई  
नीई रखाई 599.23 ⇨

नीवर  
संन्यासी 790 11

नीवाङ  
निवाङ 571 24

नीधि  
घोती साड़ी गौठ 586 29

नीधिबंध  
घोती साड़ी गौठ 586 29

नीधी  
गण निधि 628 6

घोती साड़ी गौठ 586 29

नाका 571 10

निधि 628 5

पूँजी 628 9

संघित निधि 628.7

नीधी ग्राहक  
कोशाध्यक्ष 630.12

नीधी बान  
नीधी दान 641 13 ⇨

नीड  
नेमि 1077 8

नीशार  
भारी उदावन 593.5

नीसू  
कुटाई ठीहा 596.13

नीहार  
कोहरा 90.10  
तुषार पात 90 9  
निष्कासन 1092 10  
हिम 90.1

नीहार जल  
ओस 90.11

नीहारिका  
नीहारिका 1.9 ⇨

नीहारिका कुंडली  
कुंडलाकार नीहारिका 1.12

नीचाई  
धिकोटी 918.15

लुचन 1017.3

नुरुता  
अनुस्वार चिह्न 410 11

नुरुता  
छिद्र 271.6

नुरुता  
छोट बुंदकी 578.8

नुरुता  
दुर्गुण 314 4

धबा 217 2

नुरुता  
बिंदु 968.1

बिंदु: चिह्न 968.2

नुरुता  
मूल तथ्य 820.16

नुरुता  
शून्य चिह्न 948 14

नुरुती  
नुरुती 203.16 ⇨

नुरुती सूची  
नुरुती सूची 203 17 ⇨

नुरुसान  
अपकार 831.4

अहित 712 2

आहति 168.1

हानि 646 7

नुरुसानदेह  
अहितकारी 712.15

स्वास्थ्यहर 162.6

नुरुसान पूरा करना  
क्षति पूर्ति करना 634 23

नुरुसान भरपाई  
क्षति पूर्ति 634 16

नुरुसाननी  
क्षति पूर्ति 634.16

नुकीला [नुकीली]  
सुंदरकाय 158.11

नुककङ  
छोर 1000.3

नितान्त अंत 995.2

नुककङ 1064.8 ⇨

नुक्का  
नोक 270.8

नुक्का टोपी  
दुपलिया टोपी 584.12

नुक्का  
दुर्गुण 314 4

नुक्कानी  
क्षति पूर्ति 634 16

- नृगवी**  
 नृकरी 203.16  
**नृचा (नृची)**  
 लुधित 1017.9  
**नृति**  
 स्तोत्र 741.16  
**नृत्त**  
 वीर्य 130.10  
**नृनना**  
 फ़सल काटना 548.39  
**नृनाई**  
 फ़सल कटाई 548.18  
 रूप लावण्य 157.5  
**नृना**  
 सद्रय 309.20  
**नृनाईदगी**  
 प्रतिनिधित्व 888 23  
**नृनाईदा**  
 प्रतिनिधि 888 26  
**नृनाइरा**  
 अग प्रदर्शन 590 7  
 दिखावा 825 1  
 प्रदर्शन 285 1  
 मेला बाजार 663 10  
**नृनाइरागाह**  
 प्रदर्शनालय 669.17  
**नृनाइरा घर**  
 प्रदर्शनालय 669 17  
**नृनाइशी**  
 तड़कभड़कदार 226 14  
 दिखावटी 825 5  
 पाखंडपूर्ण 825 6  
**नृनायी**  
 उद्घाटित (रहस्य) 822 25  
 प्रकट 822.27  
 प्रधान 852.10  
**नृसप्या**  
 औषध पत्र 171 10  
 दस्तावेज़ 412 19  
 पाक विधि 195 4  
**नृस्य**  
 उपाय 517 3  
 कार्य विधि 514 1  
 पाक विधि 195 4  
**नृतन**  
 अभूतपूर्व 312.18  
 नवीन 64.10  
 वर्तमान कालीन 36 21  
 विलक्षण 312.16  
**नृतनता**  
 अभूतपूर्वता 312.5  
 नवीनता 64 3  
**नृतन**  
 नमक 279 5  
**नृत तैल**  
 परचुन सूची 186.9  
**नृपुर**  
 धुंघरू 461.35
- पाज़ेब 228.18  
**नृपुर ध्वनि**  
 छमछम 296.8  
**नृर**  
 दीप्ति 287.16  
 प्रकाश 287 1  
**नृर चरनी**  
 प्रिय पुत्री 718.11  
**नृरबाह**  
 कपड़ा बुनकर 576 5  
**नृरा**  
 नुकल खेल 475 7  
 दंडधर 696 14  
**नृरा (नृरी)**  
 दीप्तांग 157 11  
**नृरे चरम**  
 प्रिय पुत्र 718.7  
**नृह**  
 नृह 791.15 ⇨  
 पैगंबर सूची 791 2  
**नृहः बाक**  
 जल प्रलय 530 2  
**नृ**  
 मानव 128 1  
**नृ-**  
 मानवीय 128 11  
**नृकेसरी**  
 नृसिंह अवतार 769 20  
**नृघात**  
 मानव घात 251 10  
**नृजाति**  
 नृजाति 730.14 ⇨  
 मानव जाति 128 2  
**नृजातीय**  
 मानवीय 128 11  
**नृतक**  
 नर्तक 462 13  
**नृतस्थिकी**  
 पुरातत्त्व 77 1  
**नृति**  
 नर्तन 462 12  
**नृतु**  
 नर्तक 462.13  
**नृत्य**  
 बीसठ कला सूची 397.4  
 नृत्य 462.3 ⇨  
**नृत्य अंश**  
 नृत्य अंश 462.22 ⇨  
**नृत्य कर्म**  
 नर्तन 462 12  
**नृत्य कर्मी**  
 नर्तक 462.13  
**नृत्य कला**  
 कला सूची 397.12  
**नृत्य क्रीडा**  
 रास लीला 771.25  
**नृत्य गत**  
 नृत्य गत 462.23 ⇨
- नृत्य गति**  
 नृत्य गत 462 23  
**नृत्य गान**  
 नृत्य गान 462.1 ⇨  
**नृत्यः दुमका**  
 दुमका 462.25  
**नृत्य नाटक**  
 नृत्य नाटक 463.9 ⇨  
 बैले 463 11  
**नृत्य नाटिका**  
 नृत्य नाटक 463 9  
**नृत्य नाट्य**  
 नृत्य नाट्य 462 2 ⇨  
**नृत्य निर्देशक**  
 नृत्य निर्देशक 462 17 ⇨  
**नृत्य निर्देशन**  
 नृत्य निर्देशन 462.16 ⇨  
**नृत्यप्रिय**  
 मोर 126 68  
 शिव 767 1  
**नृत्य बोल सूची**  
 नृत्य बोल सूची 462 27 ⇨  
**नृत्य मंडली**  
 नृत्य मंडली 462 15 ⇨  
**नृत्य मुद्रा**  
 नृत्य मुद्रा 464 35 ⇨  
**नृत्य लिपि**  
 नृत्य लिपि 462 18 ⇨  
**नृत्य लिपिकार**  
 नृत्य लिपिकार 462 19 ⇨  
**नृत्य वाद्य गीत**  
 संगीत 457 1  
**नृत्यशाला**  
 नृत्य शाला 471 8  
**नृत्य शाला**  
 नृत्य शाला 471 8 ⇨  
**नृत्य शास्त्र**  
 नृत्य शास्त्र 463 23 ⇨  
**नृत्य शास्त्रग्रंथ**  
 नृत्य शास्त्र 463 23  
**नृत्य संगीत**  
 काबुकी 463.12  
 नृत्य गान 462 1  
**नृत्यांगना**  
 नर्तकी 462 14  
**नृत्याभिनय**  
 नृत्य नाट्य 462 2  
**नृवेव**  
 ब्राह्मण 731 13  
 राजा 882 8  
**नृप**  
 राजा 882 6  
**नृपगृह**  
 राज महल 602 34  
**नृपधिहन**  
 राजछत्र 408 13  
 राजा धिहन 408 12
- नृपछत्र**  
 राजछत्र 408.13  
**नृपति**  
 राजा 882.6  
**नृपनीति**  
 राजनीति 884 1  
**नृपसिग**  
 राजा धिहन 408 12  
**नृप वल्लभा**  
 राजा पत्नी 882 17  
**नृप शासन**  
 राज्यादेश 878 3  
**नृपसभा**  
 राज दरबार 889 14  
**नृपावर्त**  
 लाजवर्द 96 26  
**नृपासन**  
 सिंहासन 595 9  
**नृबल**  
 नृबल 101 5 ⇨  
**नृबलः 10**  
 अश्वबल 101 4  
**नृमेध**  
 नर बलि 754 7  
**नृवंश**  
 नृवंश 730 15 ⇨  
 मानव जाति 128 2  
**नृवराह**  
 वराह अवतार 769 34  
**नृवानर**  
 बनमानुस 127 91  
**नृवंस**  
 अत्याचारी 835 13  
 निर्दय 835 10  
 हिंसक 251 31  
**नृवंसता**  
 असुरता 783 5  
 निर्दयता 835 2  
**नृवंसतापूर्ण**  
 निर्दयतापूर्ण 835 9  
**नृसिंह**  
 नृसिंह अवतार 769 20  
 विष्णु चौबीस अवतार सूची 769 9  
 विष्णु दस अवतार सूची 769 8  
 विष्णु पूर्णावतार सूची 769 6  
 वीर पुरुष 396 2  
**नृसिंह अवतार**  
 नृसिंह अवतार 769.20 ⇨  
**नृसिंह अवतार द्वारा हत**  
 हिरण्य कशिपु 769 25  
**नृसिंह देवी**  
 काली 776 3  
**नृसिंहः नो रूप सूची**  
 नृसिंहः नो रूप सूची 769 21 ⇨  
**नृहस्या**  
 मानव घात 251 10  
**नृहरि**  
 नृसिंह अवतार 769.20

नेक-

नेक-

अच्छा उपसर्ग सूची 313.19

नेक

अत्य 942 13  
उत्तम 313 11  
पुण्य कर्ता 814 5  
सच्चरित्र 810 5  
सच्चरित्रा 810 6  
सदाशय 817 10

नेकअंदेश

कल्याण कामी 710 23

नेक काम

सत्कर्म 814 2

नेकचलन

सच्चरित्र 810 5

नेकचलनी

सच्चरित्रता 810 2

नेकतरीन

उत्तम 313 13

नेकदिल

सदाशय 817 10

नेकनाम

ख्यात 847 3

नेकनामी

ख्याति 847 1

नेकनीयत

सदाशय 817 10

नेकनीयती

सज्जनता 817 1

नेकबद्ध

सौभाग्यशाली 260 33

नेकबद्धी

सौभाग्य 260 17

नेकभिजाज

सदाशय 817 10

नेक राय

सुपरामर्श 332 3

नेक वक्रत

मगल काल 796 3

नेक सलाह

सुपरामर्श 332 3

नेकसीरत

सच्चरित्र 810 5

सद्गुणी 313 15

नेकी

उत्तमता 313 1

उपकार 832 1

कल्याण 710 2

सज्जनता 817 1

सत्कर्म 814 2

नेकी बदी

कल्याण अकल्याण 710 1

विपरीतता उपमान सूची 310 13

नेग

नेग 640 7 ⇨

प्रथा 795.9

विवाह रस्म रिवाज 800 1

नेगघार

नेग 640 7

नेगेटिव (अँ)

अस्वीकारात्मक 338 32

नेघरक्योर (अँ)

प्राकृतिक चिकित्सा 172 14

नेघरोपेथ (अँ)

प्राकृतिक चिकित्सक 172 15

नेघावर

बलि कर्म 754 1

नेजक

घोषी 220 6

नेजन

वस्त्र प्रखालन 220 4

नेजा

धिलगोजा 191 7

भाला 925 4

नेजा बरदार

भालाधारी 930 16

नेटा

नासिका मल 215 17

नेत

मथन. रस्ती 554 15

नेतर

नीम 13 12

नेता

अभिनेता 464 5

आनयन कर्ता 1053 11

इंद्र 773 5

गुरु 323 1

दल नायक 852 6

दिशा निर्धारक 29 24

नेता 346.2 ⇨

मूसा 791 23

विष्णु 768 1

साधंपति 657 14

नेता (दे.)

प्रधान व्यक्ति 852 4

नेतागिरी

नेतृत्व 346 1

नेतानुगामी

अनुगामी 345 7

नेतायुक्त

नेतायुक्त 346.5 ⇨

नेताहीन

नेताहीन 346 6 ⇨

नेता होना

नेतृत्व करना 346 4

नेति

नेति 741 26 ⇨

व्याहृति सूची 741 24

नेति नेति

नेति 741 26

नेती

मथन रस्ती 554 15

नेतृत्व

नेतृत्व 346.1 ⇨

मार्ग प्रदर्शन 1098 3

सचालन 655 1

नेतृत्व करना

नेतृत्व करना 346 4 ⇨

नेतृत्वहीन

नेताहीन 346 6

नेत्र

दो उपमान सूची 948 20

नेत्र 141 1 ⇨

नेत्र पुतली 141 5

मथन रस्ती 554 15

नेत्रक (प्र)

नेत्र लैस 141 10

नेत्र कोटर

नेत्र कोटर 141 3 ⇨

नेत्र कोर

नेत्र कोर 141.4 ⇨

नेत्र गोलक

नेत्र पुतली 141 5

नेत्र घर्षा

नेत्र प्रसाधन 225 21

नेत्र जल

अश्रु 387 1

नेत्रदान

नेत्रदान 153 10 ⇨

नेत्र निर्मीलन

आँख मारना कर्म 284 7

नेत्र पटल

रैटिना 141 9

नेत्र पुतली

नेत्र पुतली 141.5 ⇨

नेत्र प्रसाधन

नेत्र प्रसाधन 225 21 ⇨

नेत्र भंगिमा

नेत्र मुद्रा 464 32

नेत्र भाव

नेत्र मुद्रा 464 32

नेत्रः श्रु

भू 141.11

नेत्र मल

देह मल सूची 215 2

नेत्र मल 215.9 ⇨

नेत्र मुद्रा

नेत्र मुद्रा 464 32 ⇨

नेत्र मुद्रा करना

चितवन घबल करना 284 35

नेत्रघोनि

इंद्र 773.5

नेत्रः लैस

नेत्र लैस 141.10 ⇨

नेत्रस्पर्ध काल

निमिष 50 13

नेत्र स्पर्धन

नेत्र स्फुरण 1039 8

नेत्र स्फुरण

नेत्र स्फुरण 1039 8 ⇨

नेत्रहीन

अघा [अघी] 164.8

नेत्रहीनता

अथता 164 3

नेत्रांजन

नेत्रांजन 225.22 ⇨

नेत्राजित

नेत्राजित 225 40 ⇨

नेत्रांबु

अश्रु 387 1

नेत्रीय

नेत्रीय 141 15 ⇨

नेदिष्ठ

अधिकतम 944.6

नेदिष्ठी

सहोदर 723 27

नेनुआ

धिया 189 19

नेपथ्य

अदृश्य स्थान 33 2

नाट्य देश 464 38

मघ पृष्ठ 471.16

नेपथ्य गृह

मघ पृष्ठ 471 16

नेपथ्य पूर्वंग सूची

नेपथ्य पूर्वंग सूची 468 18 ⇨

नेपथ्य योग

आहार्य अभिनय 464 36

घीसठ कला सूची 397 4

नेपथ्य शाला

ग्रीनरूम 464 41

नेपाल

दक्षेस सदस्य सूची 27 4

नेपाल 27 9 ⇨

भास्त उपमहाद्वीप देा क्षेत्र सूची 27 6

नेपालक

ताँबा 94 8

नेपालः राजधानी

नेपाल राजधानी 27.10 ⇨

नेपाली

नेपाली 27.26 ⇨

भारत राष्ट्रभाषा सूची 421 4

नेफ्रा

नेफ्रा 571.12 ⇨

नेम

अर्धांश 949 18

आवृत्ति 71.1

नित्य कर्म 504 8

विधि (क्रानून) 878 1

नेमत

प्रसाद 750 13

वरदान 714 1

सुख 390 2

सुखद वस्तु 390.3

स्वादित आहार 197.1

नेम धरम

धर्म कर्म 747 1

नित्य कर्म 504.8

नेमप्लेट (अँ)

नेमप्लेट (अँ) 442.15 ⇨



- नेमि**  
 इंद्र वज्र 928 8  
 कुआँ. चबूतरा 610 11  
 घेर 872.6  
 घेरा 604 7  
 घरखी 1077 33  
 नेमि 1077.8 ⇨  
 पृथ्वी 9 1
- नेमिनाथ**  
 तीर्थंकर सूची 792.2
- नेमि मार्ग**  
 लीक 1063 16
- नेमी**  
 धर्मी कर्मी 747.6  
 नियम पालक 879 20  
 नेमि 1077 8
- नेमी धरमी**  
 धर्मी कर्मी 747 6
- नेल पालिश**  
 नेल पालिश 225.29 ⇨  
 नेल पालिश (ऑ)  
 नेल पालिश 225 29
- नेवज**  
 नैवेद्य 750 7
- नेवतना**  
 निमंत्रित करना 1056.5  
 भोज के लिए बुलाना 183 34
- नेवताहरा**  
 भोजदाला 183 14  
 भोजातिथि 183 17
- नेवताहरी**  
 भोजातिथि 183 17
- नेवता**  
 नियंत्रण 1056.1
- नेवला**  
 नेवला 127 69 ⇨
- नेवारी**  
 जुही 14 18
- नेवी (ऑ)**  
 नी सेना 932 19  
 नी सैनिक 834 13
- नेशन (ऑ)**  
 राष्ट्र 881.1
- नेशनल क्लब (ऑ)**  
 राष्ट्रीय देश 589 13
- नेशनलाइजेशन (ऑ)**  
 राष्ट्रीयकरण 635.3
- नेशनलाइज़्ड (ऑ)**  
 राष्ट्रीयकृत 635 19
- नेशनल्लुड (ऑ)**  
 राष्ट्रीयता 881.2
- नेस्तानाबूद**  
 नष्ट 531.7
- नेस्तानाबूदी**  
 नारा 531 1
- नेस्ती**  
 अनस्तित्व 247.1
- नेह**  
 प्रेम 368.1  
 स्नेह 368.10
- नेहनमन**  
 नमन 1060 4
- नेहरू जन्म दिवस**  
 बाल दिवस 58 14
- नेहा**  
 प्रेम 368 1
- नेहा लगाना**  
 प्रेम करना 368 13
- नेही**  
 प्रेमी 368.2  
 स्नेही 368 24
- नैकनापन**  
 नैकनापन 299 17 ⇨
- नैबुत्सु ओदोरी (प्रारंभिक रूप)**  
 काबुकी 463 12
- नै**  
 नैचा 213 12  
 बॉसुरी 461.63
- नैऋत**  
 राक्षस 784 1
- नैऋत्य कोण**  
 दक्षिण पश्चिम 29 16
- नैक**  
 अनेक 940 10
- नैकटाई**  
 नैकटाई 585 2 ⇨
- नैकटाई (ऑ)**  
 नैकटाई 585 2
- नैकटाई: पिन**  
 नैकटाई: पिन 585.4 ⇨
- नैकटिक**  
 सन्ध्यासी 790.11
- नैकट्य**  
 निकटता 31.1
- नैकनापन**  
 नैकनापन 299.17
- नैकलेस (ऑ)**  
 कंठहार 228.26
- नैकबीअर (ऑ)**  
 कठ परिधान 585 1
- नैकृतिक**  
 बेईमान 816.5
- नैखिल**  
 ब्रह्मांडीय 1.15
- नैगम**  
 उपनिषद् 740 12  
 कार्य नीति 517.6  
 वेदीय 740 62  
 व्यापारी 657.2  
 शोयरघारी 628.31  
 सार्धपति 657 14
- नैगमिक**  
 वेदीय 740.82
- नैगलिजी (ऑ)**  
 नाइट गाउन 585.49
- नैगोटिव वायर (ऑ)**  
 ठंडा तार 102 10
- नैगोशिएशन (ऑ)**  
 परक्रामण 658 8
- नैचा**  
 नैचा 213.12 ⇨
- नैट (ऑ)**  
 जाली 572 18
- नैट प्रीक्रिट (ऑ)**  
 शुद्ध लाम 646 5
- नैटवर्क**  
 नैटवर्क 577.20 ⇨
- नैटवर्क (ऑ)**  
 नैटवर्क 577 20
- नैतिक**  
 नीतीय 517 12  
 नैतिकतापूर्ण 815.5
- नैतिकता**  
 धर्म 735 1  
 नैतिकता 815 1 ⇨  
 मर्यादा 808 5  
 विवाह निष्ठा 805 1
- नैतिकता ज्ञानी**  
 नैतिकता ज्ञानी 815.6 ⇨
- नैतिकतापूर्ण**  
 नैतिकतापूर्ण 815.5 ⇨
- नैतिकताहीन**  
 अनैतिक 816 4
- नैतिकताहीनता**  
 अनैतिकता 816 1
- नैतिक पतन**  
 दुश्चरित्रता 811 1
- नैतिक स्वत्व**  
 अतरात्म्या 351 4
- नैदाघ**  
 ग्रीष्म कालीन 53.17
- नैदाधीय**  
 ग्रीष्म कालीन 53.17
- नैन**  
 नेत्र 141.1
- नैन मटकाना**  
 धितवन चंचल करना 284 35
- नैना**  
 नेत्र 141 1
- नैपकिन (ऑ)**  
 रूमाल 588.3
- नैपघ्यून (ऑ)**  
 वरुण ग्रह 7 15
- नैपुण्य**  
 उत्तमता 313 1  
 परिष्कृतता 537.3
- नैप्युला (ऑ)**  
 नीहारिका 1.9
- नैपितिक**  
 आकस्मिक 69.10  
 कारणभूत 507.6  
 ज्योतिषी 261.2  
 शकुनज्ञ 262.17
- नैपिष**  
 अल्प कालीन 38 8
- नैयतिक**  
 प्रारब्धीय 260 26
- नैया**  
 नीका 1072 2
- नैयायिक**  
 तार्किक 325 24  
 न्याय विषयक 874 33  
 न्यायाधीश 874 15
- नैयायिक निपटारा**  
 नैयायिक निपटारा 877.11 ⇨
- नैयायिक निर्णय**  
 न्याय निर्णय 877 14
- नैराश्य**  
 आशाहीनता 376 1  
 हताशा 376 2
- नैरेटर (ऑ)**  
 कथा उद्घोषक 467.3
- नैरो गेज**  
 नैरो गेज 1066 15 ⇨
- नैरो गेज (ऑ)**  
 नैरो गेज 1066 15
- नैरुऋत**  
 राक्षस 784.1
- नैरुऋती**  
 दुर्गा 776 7
- नैवल शिप (ऑ)**  
 नौसेना पोत 1072.43
- नैविगेबल (ऑ)**  
 नाव्य 1080.46
- नैविगेबिलिटी (ऑ)**  
 जलराशि: नाव्यता 1080.28
- नैवेद्य**  
 उपहार्य 640 14  
 देय 634.27  
 नैवेद्य 750 7 ⇨  
 बलि वस्तु 754 2  
 षोडशोपचार सूची 750.4
- नैवेद्य (दे.)**  
 चढ़ावा 750.12
- नैश**  
 रात विषयक 48 13
- नैशनल (ऑ)**  
 नागरिक 883 2  
 राष्ट्रीय 881 29  
 स्वराष्ट्रीय 881 31
- नैशनीलिटी (ऑ)**  
 राष्ट्रीयता 881.2
- नैशिक**  
 रात विषयक 48.13
- नैष्ठिक**  
 अनाशक्ति 378.7  
 असंदिग्ध 340 19  
 धैर्यशील 394.15  
 निष्ठावान 826.9
- नैष्ठिकता**  
 अविचलता 500.5

## नैसर्गिक

दुःखिघाहीनता 500 4  
दृढमत्ता 343.2  
निर्णायकता 328 5  
निष्ठा निर्वाह 826.2

## नैसर्गिक

अति सुंदर 157 8  
परलौकिक 258 14  
प्राकृतिक 782.10  
स्वर्गिक 259.10  
स्वाभाविक 836 11

## नैसर्गिक

नीहर  
पीहर 601 8  
नोक  
नोक 270 8  
नोकदार  
नोकदार 270 22  
नोच  
छीन 635 7  
नोच खसोट  
छीना झपटी 635 8  
नो (अं)  
नहीं 338 51

## नैसर्गिक

नोआ  
दोहन रस्सी 555.19  
नोआह  
नूह 791.15  
नोइनी  
रस्सी सूची 570 6  
नोई  
दोहन रस्सी 555 19  
नोक  
अक्षाय 1077.13  
क्रलमः जीम काट 416 4  
कोण 970 1  
गौस 938 12  
छोर 1000.3  
जूताग्र 588.34  
घार 270.7  
निब 416 17  
नोक 270.8 ⇌  
बाणः अग्रभाग 926 18

## नैसर्गिक

नोकझोंक  
छेकछाड़ 708.5  
तकरार 708 7  
नोकझोंक 385.8 ⇌  
नोकझोंक (दे.)  
विवाद 324.1  
नोकदार  
कोणयुक्त 970.12  
तीक्ष्ण 270 19  
नोकदार 270.22 ⇌  
सजा धजा [सजी धजा] 226 13  
सुंदरकाय 158 11  
नोकवारी  
तड़कमड़कदार 226 14  
सजधज 226 6  
नोक पर  
छोर पर 1000.16

## नोक पलक

मुख मंडल 140.11  
नोकपान  
जूता बनावट और सुदस्ता 588 26  
नोकहीन  
नोकहीन 270.23 ⇌  
नोकहीन जूता  
गुरगाबी 588.21  
नोकझोंकी  
नोकझोंक 385 8  
नोकीला [नोकीली]  
कोणयुक्त 970 12  
तीक्ष्ण 270 19  
नोकदार 270.22  
नोकीला टुकड़ा  
किरिच 938 38  
नोकीलापन  
तीक्ष्णता 270 6

## नोक

नोच  
लुघन 1017 3  
नोच कर रूई: धुनाई  
तुमाई 567 3  
नोच खरांच  
नखानखी 905 22  
नोच खसोट  
नखानखी 905 22  
लूटपाट 864.24

## नोचन

नोचन  
धिकोटी काटना 918.26  
छीनना 635 13  
लुघित करना 1017 6  
नोचने वाला  
लुघक 1017.10  
नोचा [नोची]  
लुघित 1017.9  
नोचाई  
लुघन 1017 3  
नोचानोची  
छीना झपटी 635 8  
नखानखी 905 22  
लूटपाट 864 24

## नोज

नोज (अं)  
विमानाग्र 1074 21  
नोज डाइव (अं)  
डाइविंग 1081 24  
नोजल  
नोजल 19.30 ⇌  
नोजल (अं)  
नोजल 19.30  
नोट (अं)  
ऋण पत्र सूची 633.15  
कागजी सिक्का 629 2  
लिखित नोट 412 26  
नोट पेपर (अं)  
कागज 415.9  
नोटबुक  
नोटबुक 415.17 ⇌

## नोटबुक (अं)

झायरी 41.5  
नोटबुक 415 17  
नोटरी पब्लिक  
नोटरी पब्लिक 874.30 ⇌  
नोटरी पब्लिक (अं)  
नोटरी पब्लिक 874.30  
नोटिंग (अं)  
हारिया लिखाई 1000.14  
नोटिस  
नोटिस 875.16 ⇌  
नोटिस (अं)  
नोटिस 875 16  
विज्ञापन 442 3  
हैंडबिल 442 12  
नोटिस बोर्ड (अं)  
प्रचार पट 442.13  
नोटबल (अं)  
उल्लेखनीय 437 14  
नोटेशन (अं)  
स्वरलिपि 459 15  
नोकपूल (अं)  
पिंडिका 978 13  
नोदक  
प्रणोदक 1051 33  
प्रणोदयिता 1051 34  
नोदन  
प्रणोदन 1051 1  
नोदन प्रतिनोदन  
आरा गति 1035.2  
नोदयिता  
ऊर्जायक 101 15  
प्रणोदयिता 1051 34  
नोदित  
प्रणोदित 1051 32  
नोदित्र  
प्रणोदित्र 1051.3  
नोदी  
प्रणोदयिता 1051 34  
नोन  
नमक 279 5  
नोनिया  
नोनिया मिट्टी 100 18  
नोनिया मिट्टी  
नोनिया मिट्टी 100.18 ⇌  
नोनी  
ऊसर 552 3  
नोनिया मिट्टी 100.18  
नोबा  
नोबा 3.3 ⇌  
नोबा (अं)  
नोबा 3.3  
नोबेला (इटालियन)  
उपन्यासिका 450.9  
नो: सिगनल (अं)  
लाल बत्ती 1067.14  
नोहनी  
दोहन रस्सी 555.19

## नोहा

नूह 791 15  
नौ  
नाविकीय 1080.40  
नौ 948.33 ⇌  
नौका 1072 2  
नौ: समुदाय 687.11  
नौइयत  
भूमि धारण अवधि और शर्त 553.9  
नौ: उपमान सूची  
नौ: उपमान सूची 948.34 ⇌  
नौ कन्या  
नवकन्या 774 19

## नौकर

आवासीय सेवक 651 4  
कर्मचारी 652.27  
सेवक 651 25  
नौकर धाकर  
कर्मचारी समूह 652 28  
नौकर मालिक  
विपरीतता. उपमान सूची 310 13  
नौकराना  
रिश्तत 865 9  
वेतन 643.23  
नौकरानी  
सेविका 651.28  
नौकरी  
सेवा 651 1  
नौकरी देना  
नियुक्त करना 653.24  
नौकरीपेशा  
वैतनिक 643 40  
नौकर्ण  
कर्ण 1073.2  
नौकर्णधार  
कर्णधार 1080.19  
नौकर्ण धारक  
कर्णधार 1080.19  
नौकर्णी  
कर्णधार 1080.19  
नौकर्म  
नौकायन 1080.1  
नौकर्षण  
नौका कर्षण 1080.3  
नौका  
नौका 1072.2 ⇌  
नौका (दे.)  
जलयान 1072.1  
नौका: अनुतरंग  
अनुतरंग 867.8  
नौका कर्षक  
नौका कर्षक 1080.4 ⇌  
नौका कर्षण  
नौका कर्षण 1080.3 ⇌  
नौका कर्षण पथ  
गून पथ 1086.10  
नौकाग्र  
नौकाग्र 1073.23 ⇌

नीका घाट	नी काव्य रस	नीदंड	नीची
नीका घाट 1069.12 ⇨	नवरस 455.10	डॉंक 1073.5	नवमी 44 15
नीका बलाना	नीका सूची	नीदरु	नी यात्रा
नीकायन करना 1080.31	नीका सूची 1072.3 ⇨	समुद्री बटमार 864.36	जल यात्रा 1087.15
नीका बालन	नीका सेतु	नी दो ग्यारह	समुद्र यात्रा 1087.17
नीकायन 1080.1	तैरता पुल 1065.12	तीव्र पलायित 916.22	नीयात्री
नीका छिद्र रोधन	नीका स्तंभ	नी दो ग्यारह करना	जल यात्री 1087.16
नीका छिद्र रोधन 272.5 ⇨	मस्तूल 1073.11	चलता करना 1092.13	नीरंगी
नीका जल में उतारना	नीकीय	नी दो ग्यारह होना	नारंगी 190.22
जलावतारण करना 1080.37	नाधिकीय 1080.40	तीव्र पलायन करना 916.13	नीरतन हार
नीका तरंग	नी कुमारी	नी द्वार	नवरत्न माला 228.35
अनुतरंग 867.8	नवकुमारी 774.28	शरीर नी संघ 138.2	नीरते
नीका तल	नीकोदर	नीन कमीशंड आफिसर (ऑ)	नवरात्र 57.11
डैक 1073.27	नीकोदर 1073.34 ⇨	अनायुक्त अधिकारी 652.8	नी रत्न
नीका दंड	नीगमन	नीन-कमीशंड ऑफिसर (ऑ)	नवरत्न 96.6
डॉंक 1073.5	नीकायन 1080.1	अराजपत्रित सेनाधिकारी 935.5	नीरात्रे
नीका दल	नीगम्य	नीन-कौन्सिल ऑफिसर (ऑ)	नवरात्र 57.11
बेड़ा 1072.51	नाव्य 1080.46	असङ्गोय अपराध 861.7	नीरोज
नीका धारा में डालना	नीगम्यता	नीन-गर्जेटिड आफिसर (ऑ)	नीरोज 57.60 ⇨
नीका धारा में डालना 1080.32 ⇨	जलराशि नाव्यता 1080.28	अराजपत्रित अधिकारी 652.10	नीरोज (पारसी)
नीका पाल	नीगही	नीन-रेजिडेंट (ऑ)	नव वर्ष सूची 42.19
पाल 1073.10	नवरत्न माला 228.35	अनावासी 883.8	नीलखा [नीलखी]
नीका पुल	नीग्रही	नीनरर्टंडर्ड (ऑ)	बहुमूल्य 664.31
तैरता पुल 1065.12	नवरत्न माला 228.35	अमानक 957.8	नीली
नीका पृष्ठ	नीघरा	नी निधि	नीली 672.8 ⇨
डैक 1073.27	बोट हाउस 1069.29	कुबेर नवनिधि 779.11	नीबहन
नीका पृष्ठ 1073.31 ⇨	नीघर	नीनेता	कर्ण धारण 1080.6
नीका बंधन	जल यात्री 1087.16	कर्णधार 1080.19	नी बहन
नीका बंधन स्थान 1073.19	नीची	नी परिवहन	नीसेवा 1068.7
नीका बंधन: खूँटा	दासी 651.10	नीसेवा 1068.7	नीवी [नीवी]
नीका बंधन खूँटा 1073.18 ⇨	नवयुवती 231.3	नी प्रभु	नीर्वो [नीर्वी] 948.95 ⇨
नीका बंधन: स्थान	नीघोर	नी प्रभु 1080.15 ⇨	नीवाह
नीका बंधन स्थान 1073.19 ⇨	समुद्री बटमार 864.36	नीबंध	कर्णधार 1080.19
नीका मार्ग	नीजवान	जैटी 1069.13	नीविद्या
जल मार्ग 1066.5	नवयुवक 231.2	नीब (ऑ)	नीविद्या 1080.30 ⇨
नीकाय	नीजवानी	पूठ 596.24	नीविहार
जलयान पेटा 1073.33	नवयौवन 231.1	नीबकिया	नीका विहार 483.21
नीकायन	नीजा	नव धनाढ्य 626.16	नीवी
नीकायन 1080.1 ⇨	बादाम 191.10	नीबत	नवमी 44.15
नीका विहार 483.21	नी जाति: स्त्रियों	अंतिम अवसर 70.7	नीशक्ति
नीकायन करना	नवकन्या 774.19	अवसर 70.1	नी सेना 932.19
नीकायन करना 1080.31 ⇨	नीजीविक	बारी 70.8	नीशा
नीकायन पाइलट	नाविक 1080.21	मंगल वाद्य सूची 796.12	वर 801.10
नीकायन पाइलट 1080.27 ⇨	नीटंकी	रोशन चौकी सूची 461.10	नीशास्त्र
नीकायन विद्या	नीटंकी 463.14 ⇨	समय घोष 50.1	नीविद्या 1080.30
नीविद्या 1080.30	मंच नाटक 463.1	नीबत खाना	नीशी
नीका यात्रा	नीट: 10	वादन स्थल 461.5	वधू 801.11
जल यात्रा 1087.15	समुद्री मील 959.26	नीबतनबाज़	नीसत
नीका यात्री	नीटांक	नगाड़ा वादक 461.59	सोलह 948.49
जल यात्री 1087.16	देशी शराब 209.3	नीबत बजना	नी: समुदाय
नीका: रस्सी	नी तरंग	समय घोष होना 50.29	नी: समुदाय 687.11 ⇨
जलयान. रस्सी 1073.16	अनुतरंग 867.8	नीबती	नी समूह
नीकावतारण	नी तल	नगाड़ा वादक 461.59	बेड़ा 1072.51
जल अवतारण 1080.9	पोत रीढ़ 1073.37	पहरेदार 908.9	नीसावर
नीका विमान	नीताय	भारी तंबू 600.21	नीसावर
नीका विमान 1074.11 ⇨	नाव्य 1080.46	सवारी घोड़ा 127.37	नीसादर 87.14 ⇨
नीका विहार	नीतार्यता	नीभरण	नीसिखिया
नीका विहार 483.21 ⇨	जलराशि नाव्यता 1080.28	नीकायन 1080.1	अप्रवीण 304.9
			नीसिखिया 304.10 ⇨

## नौसिखियापन

### नौसिखियापन

नौसिखियापन 304.5 ⇨

### नौ सेना

नौ सेना 932.19 ⇨

### नौ सेनापति

नौ सेनापति 935.3 ⇨

### नौसेना पोत

नौसेना पोत 1072.43 ⇨

### नौसेवा

नौसेवा 1068.7 ⇨

### नौसेवा कंपनी

नौसेवा कंपनी 1068.8 ⇨

### नौ सैनिक

नौ सैनिक 934.13 ⇨

### नौसैनिक बेड़ा

नौसैनिक बेड़ा 1072.52 ⇨

### न्यथित

अवनमित 1025.8

### न्यग्रोध

गोदा 190.17

बरगद 13.16

विष्णु 768.1

शिव 767.1

हस्त 149.2

### न्यर्बुद

दस अरब 948.80

### न्यसन

आधार ग्रहण 1019.6

आधारण 1019.5

धिहनन 407.2

प्रवर्तन 693.3

सस्थापना 693.1

स्थितन 1020.3

### न्यस्त

आधारित 1019.17

प्रदत्त 638.14

बधकित 633.38

विजकित 1016.42

व्यवस्थित 893.13

सस्थापित 693.9

स्थित 1020.8

### न्याना [न्यानी]

अनुभवहीन सरल 817.9

अवयस्क 229.22

### न्याय

उदाहरण 309.6

तुलना 309.1

नैयायिक निपटारा 877.11

न्याय 874.1 ⇨

वेदोपाग सूची 740.43

### न्याय अकर्ता

न्याय अकर्ता 874.38 ⇨

### न्याय असंगत

न्यायहीन 874.35

### न्याय करना

न्याय करना 874.32 ⇨

पक्षपात न करना 887.7

### न्याय कर्ता

न्याय कर्ता 874.37 ⇨

### न्यायकर्ता

न्यायाधीश 874.15

### न्याय कर्मी

न्याय कर्मी 874.14 ⇨

### न्यायघर

न्यायालय भवन 874.11

### न्यायतः

न्यायपूर्वक 874.39

### न्याय तुला

न्याय तुला 874.2 ⇨

### न्याय दर्शन

छह आस्तिक दर्शन सूची 760.28

### न्याय निर्णय

न्याय निर्णय 877.14 ⇨

### न्यायपति

न्यायाधीश 874.15

### न्यायपर

न्यायप्रिय 874.36

### न्याय पालिका

न्याय पालिका 881.28 ⇨

राज्य अंग सूची 881.25

### न्यायपीठ

न्यायालय 874.5

### न्यायपूर्ण

न्यायपूर्ण 874.34 ⇨

पक्षपातहीन 887.10

### न्यायपूर्वक

न्यायपूर्वक 874.39 ⇨

### न्यायप्रिय

न्यायप्रिय 874.36 ⇨

### न्यायमूर्ति

न्यायमूर्ति 874.17 ⇨

### न्याययाधीश कक्ष

न्याययाधीश कक्ष 874.12 ⇨

### न्याययुक्त

नैतिकतापूर्ण 815.5

### न्याययुक्तता

नैतिकता 815.1

### न्याय वाक्य

न्याय वाक्य 424.17 ⇨

### न्याय विषयक

न्याय विषयक 874.33 ⇨

### न्याय व्यवस्था

न्याय पालिका 881.28

न्याय व्यवस्था 874.4 ⇨

### न्याय शास्त्र

तर्क शास्त्र 325.17

### न्याय शास्त्री

तर्क शास्त्री 325.26

वकील 874.26

विधिज्ञ 878.13

### न्यायशील

न्यायप्रिय 874.36

### न्याय संगत

तर्कपूर्ण. 325.21

### न्यायसंगत

न्यायपूर्ण 874.34

### न्यायहीन

न्यायहीन 874.35 ⇨

### न्यायहीनता

न्यायहीनता 874.3 ⇨

### न्यायाकांक्षी

फरियादी 350.22

### न्यायाज्ञा

डिग्री 877.17

### न्यायाधिकारी

न्यायाधीश 874.15

### न्यायाधीश

ईसा 791.8

क्राज़ी 874.19

न्यायाधीश 874.15 ⇨

### न्यायाधीश आसन

न्यायाधीश आसन 874.13 ⇨

### न्यायाधीश कक्ष

न्यायाधीश कक्ष 874.12

### न्यायाधीश निर्णय

न्याय निर्णय 877.14

### न्यायानुकूल

न्यायपूर्वक 874.39

### न्यायालय

न्यायालय 874.5 ⇨

### न्यायालय कर्मचारी

न्याय कर्मी 874.14 ⇨

### न्यायालय भवन

न्यायालय भवन 874.11 ⇨

### न्यायासन

न्यायाधीश आसन 874.13

### न्यायिक अलगाव

विधिक विच्छेद 804.7

### न्यायिक समन

समन 875.17

### न्यायी

न्याय कर्ता 874.37

न्यायप्रिय 874.36

### न्यायोपहित

न्यायपूर्ण 874.34

### न्यारना

विलग करना 1011.4

### न्यारा [न्यारी]

अनुपम 312.17

असदृश 310.6

इतर 945.5

दूरस्थ 32.7

विलक्षण 312.16

विलग्न 1011.5

### न्यारिया

विशोधन कर्ता 219.10

### न्यारे

दूरी पर 32.10

### न्यास

काव्य गुण सूची 453.4

जमा राशि 631.14

घरोहर 633.27

न्यास 692.8 ⇨

बंधक वस्तु 633.26

राग स्वर प्रकार सूची 459.18

### न्यास कर्ता

सस्थापक 693.10

### न्यासधारी

बंधक ग्राही 633.19

### न्यास पत्र

बंधक पत्र 633.25

### न्यास सभा

न्यायमूल्य 874.5

### न्यास स्वर

न्यास स्वर 459.20 ⇨

### न्यासी

जमा कर्ता 631.15

सन्यासी 790.11

सस्थापक 693.10

### न्याहीनता

न्यायहीनता 874.3

### न्युक्त

अधोमुख 1023.14

नतोदर 989.9

बरगद 13.16

### न्युक्तता

अधोमुखता 1023.4

नतोदरता 989.1

### न्युक्लियस (अं)

नाभिक 129.4

### न्युज़ (अं)

समाचार 440.1

समाचार पत्र 445.1

न्युज़ एजेंट (अं)

पत्र पत्रिका विक्रेता सूची 420.7

न्युज़ एजेंसी (अं)

समाचार एजेंसी 445.25

न्युज़ डिस्पैच (अं)

प्रेषित समाचार 445.18

न्युज़पेपर (अं)

समाचार पत्र 445.1

न्युज़पेपर मैन (अं)

पत्रकार 445.8

न्युज़बीय (अं)

पत्र पत्रिका विक्रेता सूची 420.7

न्युज़मैन (अं)

संवाददाता 445.22

न्युज़रील (अं)

समाचार चित्र 472.11

न्युज़स्टैंड (अं)

पत्र पत्रिका विक्रेता सूची 420.7

न्यू टैस्टामेंट

न्यू टैस्टामेंट 739.12 ⇨

न्यू टैस्टामेंट (अं)

न्यू टैस्टामेंट 739.12

न्यूट्रलाइज़र (अं)

प्रतिअम्ल 87.9

### न्यूट्रीनो

न्यूट्रीनो 78.14 ⇨

न्यूनांश  
न्यून अंश 939 5  
न्यूनांशतः  
न्यूनांशतः 939 21 ⇨  
न्यूनांशीय  
न्यूनांशीय 939.15 ⇨  
न्यूनाधिक  
अल्पाधिक 941 9  
असमकक्ष 851 6  
न्यूनार्थक शब्द  
ऊनार्थक शब्द 426 18  
न्यूनीकरण  
सक्षेपण 980 5  
साराशन 449.13  
न्यूनीकृत  
लघुकृत 980 23  
न्यूनरोलाजी (अं)  
अक शास्त्र 262 5  
न्यूमेटिक ट्यूब (अं)  
ट्यूब 1077 10  
न्यूरोसिस (अं)  
मनोधिकार 353.1  
न्योछावर  
बलि कर्म 754 1  
वारफेर 710 12  
न्योजी  
घिलगोजा 191 7  
न्योतना  
निमंत्रित करना 1056 5  
भोज के लिए बुलाना 183 34  
न्योतहरा  
भोजदाता 183 14  
भोजातिथि 183 17  
न्योतहरी  
भोजातिथि 183 17  
न्योता  
निमंत्रण 1056 1  
भोज निमंत्रण 183 13  
विवाह पत्र 799.38  
सहभोज 183 4  
न्योता [न्योती]  
निमंत्रित 1056 7  
न्योरते  
जी अंकुर 113 2  
न्यौरते  
नवरात्र 57.11  
न्यान  
तीर्थ स्नान 221 10  
नहाना  
स्नान करना 221.22

पु

पं-  
पॉच 948.25  
पंक  
कीचड़ 214.2  
तलछट 526 7

दलदल 25 28  
पाप 812 1  
विशाल संख्या 949 5  
पंककीर  
घहा धिरई 126.38  
टिटिहरी 126 42  
पंकक्रीड  
सूअर 127 81  
पंकज  
कमल 14 4  
सारस 126 74  
पंकजिनी  
कमल सरोवर 18 3  
पंक वाति  
मीथेन 86 9  
पंक सूरण  
कमल मूल 112 14  
पंकहीन  
स्वच्छ 218 33  
पंकाति (प्र)  
मीथेन 86 9  
पंफिल  
कीचड़दार 214 10  
दलदली 25 34  
पंफिलता  
मलिनता 217 1  
पंकधर (अं)  
पंकधरिंग 271 3  
पंकधरिंग (अं)  
पंकधरिंग 271 3  
पंकधुरान (अं)  
विराम घिहन 425 31  
पंकधुरान मार्क (अं)  
विराम घिहन 425 31  
पंक्ति  
काव्य पदांश सूची 452 48  
क्यू 991 10  
क्यू क्रम 991 9  
दस- उपमान सूची 948.39  
पंक्ति 891.4 ⇨  
पॉच. समुदाय 687 7  
प्यू 745.25  
रेखा 968 6  
समाज 688 1  
पंक्ति क्रम  
क्यू क्रम 991.9  
पंक्तिबद्ध  
क्यूबद्ध 991.25  
पंक्तिबद्ध 667.15 ⇨  
पंक्तिबद्ध करना  
पंक्ति बनाना 667.9  
पंक्ति बद्धन  
पंक्ति बद्धन 667.3 ⇨  
पंक्ति बनाना  
पंक्ति बनाना 667.9 ⇨

पंक्ति बौधना  
पंक्ति बनाना 667 9  
पंक्तिबाह्य  
जाति निर्वासित 870 28  
पंख  
क्रलम पख 416 6  
टोप टोपी कलगी 584 19  
पख 151.1 ⇨  
पख एक पर 151 8  
पार्श्व भाग 997 5  
बाण पख 926 20  
मीनपख 151.6  
विमान पख 1074.22  
पंख: एक पर  
पख एक पर 151 8 ⇨  
पंख डंडी  
पख डंडी 151 9 ⇨  
पंखड़ी  
पंखड़ी 938 26 ⇨  
पुष्प पल्लव 115 7  
विमान पंखा 1074 23  
पंखदार  
पंखयुक्त 151 16  
पंखनाल  
क्रलम पंख 416 6  
पंख निकलना  
पखोद्भव होना 151 14  
पंखयुक्त  
पखयुक्त 151 16 ⇨  
पंखरी  
पंखड़ी 938 26  
पंख लगना  
उड़ड़यन सामर्थ्य आना 1030 19  
पंख स्फुरण  
पख स्फुरण 1039.9 ⇨  
पंखहीन  
अपखोद्भूत 151 18  
पखहीन 153.21 ⇨  
पंखा  
पंखा 85.27 ⇨  
प्रोपेलर 1073 3  
विमान पखी 1074 23  
पंखित्र (प्र)  
कनवैक्टर 85.30  
पंखिनी  
मादा पक्षी 126 2  
पंखी  
पंखयुक्त 151.16  
पक्षी 126 1  
शलभ 122 42  
पंखी नट  
बटरफ्लाई नट 1016 26  
पंखीय  
पंखीय 151.15 ⇨  
पंखुड़ी  
पंखड़ी 938 26  
पंखुरिया  
पंखड़ी 938 26

पंखेरू  
पक्षी 126 1  
पंखोद्भव  
पखोद्भव 151 2 ⇨  
पंखोद्भव होना  
पखोद्भव होना 151 14 ⇨  
पंखोद्भूत  
पखोद्भूत 151 17 ⇨  
पंग  
लेंगड़ा 153 19  
पंगत  
पक्ति 691 4  
समाज 688 1  
सहभोज 183 4  
पंगत अधिकार  
सहभोज अधिकार 183 3  
पंगा [पंगी]  
लेंगड़ा 153 19  
लेंगड़ा लूला 153 20  
पंगु  
असहाय 701 8  
क्षमताहीन 488 15  
लेंगड़ा 153 19  
लेंगड़ा लूला 153 20  
थिकलांग 153 15  
पंगु गाड़ी  
अपाहिज गाड़ी 1070 12  
पंगुता  
असहायता 701 2  
क्षमताहीनता 488 4  
थिकलांगता 153 2  
पंगु यान  
अपाहिज गाड़ी 1070 12  
पंगुला [पंगुली]  
लेंगड़ा 153.19  
लेंगड़ा लूला 153 20  
पंध  
जूरी 874 22  
नाट्य सिद्धि निर्णायक 468 31  
पंध 874.21 ⇨  
पंचामृत 750.9  
पंचायत 892.1  
पंचायत समिति सदस्य 892 4  
पंध-  
पॉच 948.25  
पंध  
पॉच 948.25  
पॉचदो [पॉचरी] 948 91  
पॉच समुदाय 687 7  
विवाचक पंध 877 7  
पंध (अं)  
काकटेल 209.6  
पंधक  
ग्रहपंधक योग 261.32  
पंधगुना 949 46  
पॉच समुदाय 687 7  
पंधककार  
ककार 407 9

पंचकन्या

पंचकन्या  
द्रौपदी 771.64  
पंचकन्या 774.17 ⇨  
पंचकन्या सूची  
पंचकन्या सूची 774.18 ⇨  
पंच कामदेव सूची  
पंच कामदेव सूची 773.13 ⇨  
पंचकोण  
पंचभुज 989 8  
पंचकोश  
आत्मा पाँच आवरण 763 7  
पंच क्लेश सूची  
पंच क्लेश सूची 761.17 ⇨  
पंचगत  
पंचगुना 949.46  
पंचगुण  
इन्द्रियार्थ 268 9  
पंचगुना  
पंचगुना 949.46 ⇨  
पंचगुना [पंचगुनी]  
पंचगुना 949.46  
पंचगुप्त  
कछुआ 123 2  
पंचग्रह योग  
ग्रहपंचक योग 261 32  
पंचघोल  
पंचकन्या 774 17  
पंचजन  
असुर सूची 783.8  
आत्मा 763.1  
पंचजन 731.5 ⇨  
मानव 128.1  
पंचज्ञान  
गीतम बुद्ध 793.1  
पंचतत्त्व  
जड़ पदार्थ 78 5  
पंचभूत 78 8  
पंचतत्त्वीय  
पंचभौतिक 78 25  
पंचतन्मात्र  
इन्द्रियार्थ 268 9  
पंचतय  
पंचगुना 949 46  
पंचताल  
पंचताल 458.43 ⇨  
पंचत्व को प्राप्त होना  
मरना 249 18  
पंचदश  
पदरह 948 48  
पंचवशी  
पूणिमा 44 24  
पंचदेव  
पंचदेव 772.32 ⇨  
पंचदेवता  
पंचदेव 772 32  
पंचदेव सूची  
पंचदेव सूची 772 33 ⇨

पंचनख  
बाघ 127.55  
सिंह 127.50  
पंचनामा  
विवाचन पंचाट 877 8  
पंच निर्णय  
विवाचन पंचाट 877 8  
पंचपतित्व  
पंचपतित्व 799.10 ⇨  
पंच परमेश्वर  
पंच 874 21  
पंचपांडव  
पंच पांडव 771.28  
पंच पांडव  
पंच पांडव 771.28 ⇨  
पंच पांडव सूची  
पंच पांडव सूची 771.29 ⇨  
पंचपाश्र्चाय  
पंचपाश्र्चीय 997.16 ⇨  
पंचपिता  
पंचपिता 717.5 ⇨  
पंचपिता सूची  
पंचपिता सूची 717 6 ⇨  
पंचप्राण  
पंचप्राण 245 2 ⇨  
पंचप्राण सूची  
पंचप्राण सूची 245.3 ⇨  
पंच क्रैस्तला  
विवाचन पंचाट 877 8  
पंचबाहु  
पंचभुज 969 8  
शिव 767 1  
पंचभर्तारी  
द्रौपदी 771.64  
पंचभुज  
पंचभुज 969.8 ⇨  
पंचभुजा  
पंचभुज 969.8  
पंचभूत  
जड़ जगत 78 3  
जड़ पदार्थ 78.5  
पंचभूत 78.8 ⇨  
पंचभूत विषयक  
पंचभौतिक 78.25  
पंचभूत सूची  
पंचभूत सूची 78.9 ⇨  
पंचभूतीय  
पंचभौतिक 78 25  
पंचभौतिक  
पंचभौतिक 78.25 ⇨  
पंचम  
पंचम स्वर 459.11  
पाँचवीं [पाँचवीं] 948 91  
राग रागिनी सूची 457.24  
बद्धांग सूची 457 22  
सप्तक स्वर सूची 459.6  
पंचम आरोही  
पंचम आरोही 1082.4 ⇨

पंचम कारक  
अपादान कारक 425.25  
पंचम ताल  
पंचताल 458.43  
पंचम वर्ण  
पंचम वर्ण 731.10 ⇨  
पंचम स्वर  
पंचम स्वर 459.11 ⇨  
पंचमार्गी  
राष्ट्र द्रोही 827 21  
पंचमी  
द्रौपदी 771 64  
पंचमी 44.11 ⇨  
बिसात 479.33  
पंचमुख  
शिव 767.1  
पंचमेल  
सम्मिश्रित 1008 26  
पंचयज्ञ  
यज्ञ सूची 753 2  
शिव 767 1  
पंचरंगा [पंचरंगी]  
विधि 310.8  
पंचरंगापन  
बहुरंगीयता 289 22  
पंचरत्नकण  
पुराण 740 15  
पंचवट  
यज्ञोपवीत 798 22  
पंचवर्ण  
ओम् 741.19  
पंचवायु  
पंचप्राण 245.2  
पंचविंशति  
पचीस 948.58  
पंचशर  
कामदेव 773 12  
पंचशील  
पंचशील 737.11 ⇨  
पंचशील सूची  
पंचशील सूची 737.12 ⇨  
पंचांग  
पंचांग 41.1 ⇨  
पंचांग: अंग सूची  
पंचांग: अंग सूची 41.2 ⇨  
पंचांग शास्त्र  
पंचांग शास्त्र 41.6 ⇨  
पंचांग शास्त्री  
पंचांग शास्त्री 41.7 ⇨  
पंचांगुल  
तेजपात 281.19  
पंचाट  
विवाचन पंचाट 877.8  
पंचात्मक  
शरीर 139 1  
पंचात्मा  
पंचप्राण 245.2

पंचानन  
शिव 767.1  
पंचाननी  
दुर्गा 776.7  
पंचामृत  
पंचामृत 750.9<sup>a</sup> ⇨  
पंचायत  
गोष्ठी 694.4  
पंचायत 892.1 ⇨  
पंचायत घर 695.4  
पंचायत अध्यक्ष  
पंचायत अध्यक्ष 892 5 ⇨  
पंचायत घर  
पंचायत घर 695 4 ⇨  
पंचायत सदस्य  
पंचायत सदस्य 892.3 ⇨  
पंचायत सभापति  
पंचायत अध्यक्ष 892 5  
पंचायत समिति सदस्य  
पंचायत समिति सदस्य 892 4 ⇨  
पंचायती  
गणतंत्रात्मक 881.37  
पंचायती 892.12 ⇨  
सहकारी (सपत्ति) 621 28  
सामूहिक 690.13  
पंचायती तराजू  
पंचायती तराजू 962.12 ⇨  
पंचायती धन  
गण निधि 628.6  
पंचायती राज्य  
गणतंत्र 881.16  
पंचाल  
शिव 767.1  
पंचाली  
गुफिया 480.7  
पुतली 406.6  
बिसात 479.33  
पंचाशत  
पचास 948.65  
पंचास  
पचास 948 65  
पंचेन लामा  
पंचेन लामा 744.43 ⇨  
पंच  
कचलोहू 167.15  
देव रुधिर 131.2  
पंची  
पक्षी 126.1  
पंची उड़ना  
मरना 249.18  
पंच-  
पाँच 948.25  
पंच जायत  
नमाजे जनाजा 253.13  
पंचतन  
पंचतन 791.16 ⇨  
पंचतन सूची  
पंचतन सूची 791.17 ⇨

<b>पंजम</b>	बरफ़ी 203.27	<b>पंजुकी</b>	टोहना 336 22
पौचवाँ [पौचवीं] 948.91	<b>पंजुम</b>	फ़ासूता 126 52	<b>पैवरिया</b>
<b>पंजर</b>	पौचवाँ [पौचवीं] 948.91	<b>पंजरपुर वासी</b>	द्वार पहरदार 908 13
अस्थि पंजर 133.5	<b>पैजेरा</b>	विटठल अवतार 769 12	मंगल गायक 796 16
पसली पंजर 133 13	<b>पैकरा</b>	<b>पंत</b>	<b>पैवाड़ा</b>
शरीर 139.1	भैस: कटड़ा 230 18	मंत्री 889 18	वीर काव्य 451 14
<b>पंजर डीला होना</b>	<b>पैकरी</b>	<b>पंत प्रधान</b>	<b>पैसरहट्टा</b>
देह शिथिल होना 492 12	भैस: कटड़ी 230.19	प्रधान मंत्री 889 21	पैसरहट्टा 663.13 ⇨
<b>पंजराखेट</b>	<b>पंठा</b>	<b>पैतीजना</b>	<b>पंसारी</b>
मछली जाल सूची 1013 14	ज्ञान 305 1	ओटना 567.11	अनाज विक्रेता 665 12
<b>पैजरी</b>	पडा 744.4 ⇨	<b>पंध</b>	पसारी 663 14 ⇨
पसली 133.12	पुरोहित 744.11	कार्य विधि 514 1	<b>पंसारी का सामान</b>
<b>पंजराबह</b>	वंशावली निर्माता 727 14	धर्म 735 1	परचून 186 8
बृहस्पतिवार 46 7	विद्या 318 1	मार्ग 1063.1	<b>पंसारी बाज़ार</b>
<b>पंजा</b>	<b>पंजान</b>	सड़क 1063 33	पैसरहट्टा 663 13
तमाचा 918 16	पुरोहित. पत्नी 744 12	<b>पंध कर</b>	<b>पंसाल</b>
पंजा 150.23 ⇨	रसोईदारिन 195.8	पथ कर 647.22	साहुल डोरी 559 53
पजा लड़ाई 486.17	<b>पंजाल</b>	<b>पंध कामिनी</b>	<b>पैसुआ</b>
पौच. उपमान सूची 948 26	बड़ा मंडप 600 14	सामान्या नायिका 456 15	पनसुइया 1072 19
पौच समुदाय 687 7	<b>पंजित</b>	स्ट्रीटवाकर 807 4	<b>पैसुली</b>
पाणि 150 1	गुरु 323.1	<b>पंधान</b>	पसली 133 12
<b>पैजाई</b>	ज्ञानी 305 30	मार्ग 1063 1	<b>पंसेरी</b>
झलाई 565 4	धर्म ग्रंथज्ञ 738 2	<b>पंथिक</b>	पंसेरी 962 45 ⇨
<b>पंजाब</b>	धर्म शिक्षक 742 21	धर्मीय 735 11	-प
पंजाब 28.46 ⇨	पडा 744 4	यात्री 1087 2	आपान कर्ता 207 20
पंजाब (पाकिस्तान) 27 21	पुरोहित 744 11	<b>पंधी</b>	प
<b>पंजाब (पाकिस्तान)</b>	पूर्णविद्या 318 5	अनुगामी 345 7	पचम रवर 459 11
पंजाब (पाकिस्तान) 27 21 ⇨	प्रवीण 303 22	धर्मीय 735 11	<b>पउम</b>
<b>पंजाब: राजधानी</b>	प्रवीण व्यक्ति 303 9	पक्षधर 885 33	कमल 14 4
पंजाब राजधानी 28.47 ⇨	ब्राह्मण 731 13	यात्री 1087 2	<b>पकड़</b>
<b>पंजाबी</b>	विद्वान व्यक्ति 319 2	<b>पंदरह</b>	कसन 1013 4
भारत: राष्ट्रभाषा सूची 421 4	विशेषज्ञ 305 36	पंदरह 948 48 ⇨	कैच 475 27
<b>पंजा लड़ाई</b>	येदज्ञ 761.29	<b>पंदरोह</b>	चुटकी 150.22
पंजा लड़ाई 486.17 ⇨	सिद्ध कलाकार 397.19	परनाला 23 9	दशन 181 21
<b>पंजिका</b>	<b>पंजित [पंजिता]</b>	<b>पंद्रह</b>	दबोच 868 5
पंचाग 41 1	विद्वान 319 8	पंदरह 948 48	पंजा 150 23
<b>पंजिकाकार</b>	<b>पंजित जी</b>	<b>पंप (अँ)</b>	<b>पकड़ 868 3 ⇨</b>
पंचाग शास्त्री 41 7	कथा वाचक 749 19	घोंपाकल 19.16	<b>पकड़ 559 42 ⇨</b>
<b>पंजियारा</b>	<b>पंजित ज्ञानी</b>	ट्यूब वेल 19 15	पाश बंधन 868 7
धुनाई कर्मी 567.6	येदज्ञ 761 29	पंप शू 588.22	पैठ 1094 14
<b>पंजी</b>	<b>पंजित सभा</b>	पिचकारी 1032 14	प्रताप क्षेत्र 849 6
पौच. समुदाय 687.7	विद्वन्मंडली 319 5	वायु-पंप 85 26	प्लास 559 45
पूनी 568.7	<b>पंजित समाज</b>	<b>पंप गति</b>	बंदीकरण 868 1
रजिस्टर 415 18	विद्वत्समाज 319.4	पंप गति 1035 7 ⇨	बोध क्षमता 301 12
लेखा पुस्तक 632.8	<b>पंजिता</b>	<b>पंप शू</b>	मर्मज्ञता 305 16
सदस्य सूची 993.5	प्रगल्भा नायिका 456 10	पंप शू 588.22 ⇨	मूठ 596.24
<b>पंजीकरण</b>	<b>पंजिताइन</b>	<b>पंप शू (अँ)</b>	राग परिचायक स्वर समूह 459 2
लेखाकरण 632 30	पुरोहित. पत्नी 744.12	पंप शू 588 22	शिकजा 559 47
<b>पंजीकार</b>	ब्राह्मण स्त्री 731 14	<b>पंपा</b>	सैंडसा 560 7
पंचाग शास्त्री 41 7	<b>पंजिताई</b>	पीराणिक नदी सूची 20 23	समकक्ष आगमन 1095 3
<b>पंजीकृत</b>	विद्वता 319 1	हॉली. राज्य 781.15	<b>पकड़ धकड़</b>
लेखाकृत 632.39	<b>पंजिताक</b>	<b>पंपासर</b>	बंदीकरण 868 1
<b>पंजीकृत कार्यालय</b>	विद्वत्सामुपूर्ण 319.7	निवासिनी	<b>पकड़न</b>
पंजीकृत कार्यालय 654.4 ⇨	<b>पंजितानी</b>	शबरी 770.63	जकड़न 392.10
<b>पंजीकृत डाक</b>	पुरोहित. पत्नी 744.12	<b>पंपिंग (अँ)</b>	<b>पकड़ना</b>
रजिस्टरी डाक 444.27	ब्राह्मण स्त्री 731 14	पंप गति 1035 7	अपराध खोलना 866 19
<b>पंजीरी</b>		<b>पैबरना</b>	आखेट करना 252.28
पंजीरी 203.18 ⇨		गहराई मापना 958.56	आदान करना 637 3
		गहरी खोज करना 336.19	

## पकड़ने वाला

ग्रसना 181 37  
धिपकना 1012 11  
दबोधना 868 31  
पकड़ना 868.30 ⇨  
पाशबद्ध करना 868 32  
बंदी बनाना 868 29  
बोध करना 301 18  
वशीकरण करना 758 36  
समकक्ष पहुँचना 1095 9  
**पकड़ने वाला**  
पकड़ने वाला 868 36 ⇨  
बंदी कर्ता 868 35  
समकक्ष आगतुक 1095.18  
**पकड़ा [पकड़ी]**  
पाशबद्ध 868 38  
बंदीकृत 868 34  
**पकड़ाई**  
दबोध 868 6  
पकड़ 868 3  
**पकड़ाना**  
हस्तांतरित करना 638 12  
**पकड़े जाना**  
अपराध खुलना 866 18  
**पकड़न**  
पकड़न 195 41  
वनस्पति पकड़न 118 7  
**पकड़ना**  
पकड़ना 195 57 ⇨  
पूयित होना 169 12  
**पकड़वाना**  
आहार व्यजन 199 10  
पकड़वाना 200.23 ⇨  
पकड़ा खाना 197 4  
**पकड़ा [पकड़ी]**  
उबाल पकड़ 195 75  
पकड़ 195 77  
पकड़ (वनस्पति) 118 19  
परिपाचित 195 65  
पूयित 169 15  
वृद्ध [वृद्धा] 232 10  
स्निग्ध 197 16  
**पकड़ाई**  
परिपाचन 195 19  
सिकाई 195 28  
**पकड़ाना**  
चूल्हे पर घड़ाना 195 47  
तपाना 104 16  
परिपाचित करना 195 50  
रसोई करना 195 43  
**पकड़ापन**  
अंतिम अवस्था 955 3  
**पकड़ा शिक्षा**  
पकड़ा शिक्षा 642.8 ⇨  
**पकड़ाव**  
पकड़न 195.41  
**पकड़ी दाल**  
पकड़ी दाल 201 12 ⇨

**पकड़ी**  
पकड़ी 200 19 ⇨  
**पकड़ी**  
पकड़ी 200 17 ⇨  
**पकड़ा**  
अवश्यमेव 68 21  
पकड़ा शिक्षा 642 8  
संनिश्चय हों 337 30  
**पकड़ा [पकड़ी]**  
अति अनुभवी 303.18  
अनुभवी 303 17  
अपरिवर्तनशील 533 10  
अभजनशील 539 9  
अविघल 500.15  
आत्मविश्वासी 487 26  
तय (सौदा) 658 14  
दस्तावेज लिखित 412 49  
दीर्घ कालीन 37 10  
दृढ़प्रतिज्ञा 339 45  
दृढ़मतपूर्ण 343 13  
धैर्यशील 394 15  
निर्धारित 328 14  
परतुकताहीन 339 38  
प्रमाणित 327 9  
सकल्पित 500.10  
संपुष्ट 337 25  
सुदृढ़ 160 15  
सुनिर्धारित 328 17  
स्निग्ध 197 16  
**पकड़ा इरादा**  
सकल्प 500 1  
**पकड़ा करना**  
सकल्प करना 500 6  
**पकड़ा खाना**  
पकड़ा खाना 197 4 ⇨  
**पकड़ा खाना**  
पकड़ा खाना 197 4  
**पकड़ा गाना**  
शास्त्रीय संगीत 457 8  
**पकड़ा धिट्टा**  
बैलेस शीट 632 2  
**पकड़ा दोस्त**  
घनिष्ठ मित्र 704 14  
**पकड़ा न होना**  
अस्थिर होना 1037 14  
**पकड़ापन**  
अनश्चरता 37 3  
अविघलता 500.5  
धैर्य 394 6  
सुदृढ़ता 160 7  
**पकड़ा कर्षा**  
पकड़ा कर्षा 610.2 ⇨  
**पकड़ा मंडप**  
स्तंभ मंडप 600.13  
**पकड़ा रंग**  
पकड़ा रंग 289.26 ⇨  
**पकड़ा रागी**  
राग गायक 460.38

**पकड़ा सौदा**  
आरक्षित क्रय 660 10  
सौदा 658.3  
**पकड़ा होना**  
सुदृढ़ होना 160 9  
सौदा तय होना 658.12  
**पकड़ी गीत**  
दोहरी गीत 572 5  
**पकड़ी तौर पर**  
अपरतुकता 339 51  
सकल्पपूर्वक 500 16  
**पकड़ी नीद**  
गहन निद्रा 266 3  
**पकड़ी रसोई**  
पकड़ा खाना 197.4  
**पकड़ी सिलाई**  
बखिया 577 8  
**पकड़े तौर पर**  
संनिश्चय हों 337 30  
**पकड़**  
अति कुटिल 818 8  
पकड़ 195 77 ⇨  
पकड़ (वनस्पति) 118 19  
परिपाचित 195 65  
वयस्क 229 21  
सुदृढ़ 160 15  
**पकड़ (वनस्पति)**  
पकड़ (वनस्पति) 118.19 ⇨  
**पकड़ आहार**  
पकड़ा खाना 197 4  
**पकड़ता**  
वयस्कता 229 13  
**पकड़न**  
पकड़न 195 41 ⇨  
परिपाचन 195 19  
वनस्पति पकड़न 118.7  
**पकड़ होना**  
पकड़ना 195 57  
**पकड़ापन**  
पकड़ाना 200 23  
**पकड़ावस्था**  
अंतिम अवस्था 955.3  
**पकड़**  
अग 139.8  
आयाम 964.1  
कपाट. पल्ला 609 11  
किनारा 1000.10  
गुट 885.9  
तराजू पलड़ा 962 23  
दिशा 29 1  
पंख 151.1  
पक्ष 885.3 ⇨  
पार्श्व 997.1  
पार्श्व भाग 997 5  
फौक 938 29  
बगल 147.5  
भुजा 149.5  
मंथ पार्श्व 471 17

मांस पक्ष 45 1  
मीनपंख 151 6  
राजनीतिक दल 885 15  
वाद विषय 437 8  
समूह 690.1  
सेना पार्श्व 933 5  
**पक्ष अपक्ष**  
विमर्श 330.11  
**पक्ष ग्रहण**  
पक्षधरता 885 1  
**पक्षधर**  
घट्टेमा 8 2  
**पक्षदंड**  
क्रलम पंख 416 6  
**पक्षधर**  
चांद्र मास 43 2  
**पक्ष द्वार**  
गुप्त द्वार 608 2  
**पक्षधर**  
अनुगामी 345 7  
घट्टेमा 8 2  
पक्षधर 885 33 ⇨  
मंडन कर्ता 326 17  
**पक्षधरता**  
पक्षधरता 885 1 ⇨  
**पक्षधरता प्रेमी**  
गुटबाज 885 39  
अपक्षधर होना 887 6  
**पक्षधरता**  
क्रलम पंख 416.6  
**पक्ष: पहली तिथि**  
प्रतिपदा 44 7  
**पक्षपात**  
पक्षपातपूर्णता 885 2  
**पक्षपात करना**  
पक्षपात करना 885.21 ⇨  
**पक्षपात न करना**  
पक्षपात न करना 887.7 ⇨  
**पक्षपातपूर्ण**  
पक्षपातपूर्ण 885.34 ⇨  
पूर्व धारणाग्रस्त 343 15  
**पक्षपातपूर्णता**  
पक्षपातपूर्णता 885.2 ⇨  
**पक्षपातपूर्ण धारणा**  
पूर्व धारणा 343.8  
**पक्षपातहीन**  
पक्षपातहीन 887 10 ⇨  
**पक्षपातहीनता**  
पक्षपातहीनता 887.2 ⇨  
**पक्षपातहीन होना**  
पक्षपात न करना 887.7  
**पक्षपाती**  
पक्षपाती 885.35 ⇨  
पूर्व धारणाग्रस्त 343.15  
मंडन कर्ता 326.17  
**पक्ष पुच्छ**  
पंख पंख 151.12



पक्ष में होना अनुकूल होना 885.23	पक्षी: बोली पक्षी: बोली 298.7 ⇨	पखवार मास पक्ष 45 1	पगड़ी उछलना दुर्दशा होना 627.13
पक्षयुक्त आयामयुक्त 964.20	पक्षी बोली विचार पक्षी बोली विचार 262 9 ⇨	पखान पाषाण 99 1	पगड़ी उछालना अपमानित करना 855 6
पक्ष विपक्ष विमर्श 330 11	पक्षी मांस पक्षी मांस 206.19 ⇨	पखार प्रक्षालन 220 1	पगड़ी उतारना अपमानित करना 855 6
पक्ष विषयक पक्ष विषयक 885.26 ⇨	पक्षी: माता विनता 787.20	पखारना धोना 220 32	पगड़ी लटना 864 47
पक्ष संबद्धता पक्षघरता 885 1	पक्षीय आयामयुक्त 964.20	पखारा [पखारी] प्रक्षालित 220 40	पगड़ी छोर पगड़ी छोर 584 23 ⇨
पक्षहर मित्रद्रोही 827 20	पंखीय पंखीय 151 15	पखाल धिलमची 679 27	पगड़ी: तहपेघ पगड़ी तहपेघ 584 24 ⇨
पक्षहीन अपक्षघर 887 9	पक्ष विषयक 885 26	पखाली धोकनी 85 25	पगड़ीधारी अधिभोगी 622 3
पंखहीन 153 21	पाक्षिक 45 5	मशक 679 38	मुकुटधारी 899 18
पक्षहीनता अपक्षघरता 887 1	पार्श्व भागीय 997.19	वाश बेसिन 221.20	पगड़ी: नीचे की टोपी 584 27 ⇨
पक्षांत अमावस्या 44 21	पार्श्वीय 997 9	पखाली वाश बेसिन 221 20	पक्षी: लपेट पगड़ी लपेट 584.25 ⇨
पूर्णिमा 44 24	पक्षीयता पक्षघरता 885 1	पखायज मगल वाद्य सूची 796 12	पगड़ी: सिरपेघ पगड़ी सिरपेघ 584.26 ⇨
पक्षांतर विरोध पक्ष 886 3	पक्षीराज गरुड़ 777 15	मृदंग 461 72	पगतरी जूता 588 14
पक्षाग्रह पूर्व धारणा 343 8	पक्षी विष्टा पक्षी विष्टा 216 5 ⇨	पखायजी मृदंग वादक 461 73	पगना धनिष्ठ होना 704 18
पक्षाघात पक्षाघात 264 11 ⇨	पक्षीशाला पक्षीशाला 603.12 ⇨	पखिया तकरारी 708 14	लिपना 292 10
पक्षापक्ष विमर्श 330 11	पक्षी: शिशु पक्षी: शिशु 230.9 ⇨	पखुया स्कंध 147 3	सम्मिश्रित होना 1008.19
पक्षिणी मादा पक्षी 126 2	पक्षीश्वर गरुड़ 777 15	पखेरू पक्षी 126 1	पगनियौ जनाना जूता 588 15
पक्षी पखयुक्त 151 16	पक्षी समूह पक्षी समूह 690.8 ⇨	पखीटा पख 151.1	पगला [पगली] पागल 354 24
पक्षी (दे.) नभघर जीव 121 8	पक्षोद्भव पंखोद्भव 151 2	मीनपख 151 6	पागल व्यक्ति 354 15
पक्षी अभयारण्य पक्षी अभयारण्य 12 10 ⇨	पक्षोद्भूत पखोद्भूत 151.17	पखीरा स्कंध 147 3	पगलाना पागल होना 354 21
पक्षी आखेट पक्षी आखेट 252 10 ⇨	पक्ष पख 151 1	पग एक पद 1083.2	पगलैट पागल व्यक्ति 354 15
पक्षी आखेटक पक्षी आखेटक 252.11 ⇨	पलक रोम 141 14	पदधिहन 867 4	पगहा गला रस्सी 555 15
पक्षी: छतरी पक्षी: छतरी 603.13 ⇨	पक्षमल रोमल 135 11	पैर 149 12	रस्सी सूधी 570 6
पक्षी जाल पक्षी पारा 1013 11	पक्ष्य पाक्षिक 45 5	पगधिहन पदधिहन 867 4	पगा [पगी] पगा [पगी] 280 31 ⇨
पक्षी दंड पक्षी: छतरी 803.13	पख दुर्गुण 314.4.	पगधिहन तलाश पगधिहन तलाश 336 10 ⇨	पगाई पगाई 280 3 ⇨
पक्षी पक्ष पंख 151.1	पक्ष 885 3	पगधिहन तलाश कर्ता पगधिहन तलाश कर्ता 336.26 ⇨	पगाना परिचय बढ़ाना 704 17
पक्षी पारा पक्षी पारा 1013.11 ⇨	बकवास 428 7	पगधिहन तलाशना पगधिहन तलाशना 336.20 ⇨	पागना 280 29
पक्षी पुंघ जटापु 770.27	पख मुजा 149 5	पगडंडी पगडंडी 1063.47 ⇨	पगार गाध स्थल 984 6
पक्षी: पूँछ पक्षी: पूँछ 151.11 ⇨	पखड़ी शर्त 339 11	पशुपथ 1063 48	वेतन 643.23
पक्षी पूँछ पक्षी: पूँछ 151.11	पखड़ी पंखड़ी 938 26	पगड़ी अधिभोग अधिकार 622 2	पगियाना पागना 280.29
	पखवाई मंघ पार्श्व 471 17	उपहार परिधान सूची 583 23	पगुराना जुगाली करना 181.43
	पखवाड़ा मास पक्ष 45.1	पगड़ी 584.13 ⇨	पगोडा बौद्ध मंदिर 745.39
		मुकुट धारण 899 17	स्तूप अस्थिकक्ष 255 11
		मीर 802 18	पगगड़ पगड़ी 584.13
		रस्म पगड़ी 253.8	
		नगड़ी (दे.) वर पगड़ी 802 25	

## पघा

### पघा

गला रस्सी 555 15

### पघ-

पॉच 948.25

### पघळा

ग्रहपंचक योग 261 32

### पघगुना [पघगुनी]

पंचगुना 949 46

### पघका

खटराग 747 4

पूजा गीत सूची 749 26

### पघन

अग्नि 106 1

### पघना

परिश्रम करना 493 6

व्यय होना 644 12

सम्मिश्रित होना 1008 19

हत होना 249.19

### पघनिका

कड़ाही 682 7

### पघपघ

पिचपियाहट 297 34

### पघपहला [पघपहली]

पंचपाश्वरीय 997 16

### पघपहलू

पंचपाश्वरीय 997 16

### पघमेल

विधि 310 8

### पघा [पघी]

पधित 178 5

परिपाधित 195 65

### पघाई

परिपाघन 195 19

### पघाना

अधिग्रहण करना 635 10

गोपन करना 824 14

परिपाधित करना 195 50

रसोई करना 195 43

### पघारना

ललकारना 373 27

### पघास

पघास 948 65 ⇌

### पघास प्रतिशात

आधा 949 37

### पघास वर्ष

पघास वर्ष 42.23 ⇌

### पघासवीं [पघासवीं]

पघासवीं [पघासवीं] 948 101 ⇌

### पघित

पक्व 195 77

पधित 178 5 ⇌

परिपाधित 195 65

### पघीस

पघीस 948 58 ⇌

### पघीस प्रतिशात

द्विधाई 949 39

### पघीसवीं [पघीसवीं]

पघीसवीं [पघीसवीं] 948 99 ⇌

### पघीसः समुदाय

पघीस समुदाय 687.16 ⇌

### पघीली

पघीसः समुदाय 687 16

### पघेलिम

अग्नि 106.1

पधित 178.5

परिपाधित 195 65

### पघीर

पघायत अध्यक्ष 892.5

### पघीली

ग्राम मुखिया 892 6

पघायत अध्यक्ष 892 5

### पघयङ्क

गॉस 938 12

छीलन 938 19

पघयङ्क 938.27 ⇌

### पघयर

पघयङ्क 938 27

### पघयी

पघयीकारी 406 32

### पघयीकार

पघयीकार 406 33 ⇌

### पघयीकारी

पघयीकारी 406.32 ⇌

पघयीकारी कृति 406 34

### पघयीकारी करना

पघयीकारी करना 406 40 ⇌

### पघयीकारी कृति

पघयीकारी कृति 406 34 ⇌

### पघयीकृत

पघयीकृत 406 43 ⇌

### पघयीस

पघीस 948 58

### पघयीस तत्त्वः निर्माण तत्त्व

पुरुष 764 21

### पघयीसी

पघीस समुदाय 687 16

### पघ्यमी

पश्चिमी 29.33

### पघ्यिम

पश्चिम 29 12

### पघ्यमी

पश्चिमी 29.33

### पघ्य

पाध्य 178 6

### पघंङ

बरतन सैट सूची 680 19

### पघ-

पश्च 995 16

### पघङ्कना

पराजित होना 913.3

पीठे छूटना 1095.11

### पघङ्का

पटकनी छाया 486.26

### पघङ्काना

खेद होना 380 6

पश्चात्ताप होना 380 9

प्रायश्चित्त करना 813.7

### पघ तावा

खेद 380.1

पश्चात्ताप 380 4

पाप प्रायश्चित्त 813 4

### पघना

सावण उपकरण 83.5

### पघवत

पछेती फसल 547 10

### पघवी [पघवीं]

पश्चिमी 29 33

### पघया

पश्चिम पवन 85 21

### पघीह

पश्चिम 29 12

पश्चिम भारत 28 5

### पघीहिया

पश्चिमी 29 33

### पघीही

पश्चिम भारतीय 28 77

पश्चिमी 29.33

### पघाङ्क

पटकनी 486 19

पराजय 913 1

मूर्च्छा 264 5

### पघाङ्कना

जीतना 912 12

### पघाङ्की

नितंब 148 13

पश्चतः 995 18

पश्चभाग 995 6

### पघारना

कपड़े छूटना 220 34

### पघाहियाँ

पश्चिमी 29 33

### पघाहीं

पश्चिमी 29 33

### पघियाना

पीछा करना 1096 7

पीठे चलना 1096 6

### पघीत

पश्चभाग 995 6

### पघुआ

पश्चिम पवन 85.21

### पघुआई

पश्चिम पवन 85.21

### पघुवाई

पश्चिम पवन 85.21

### पघेती

पछेती 62 22 ⇌

पछेती फसल 547 10

समयोपरांत 62 16

### पघेतीपन

पछेतीपन 62.10 ⇌

### पघेती फसल

पछेती फसल 547 10 ⇌

### पघोङ्क

फटकाई 1009.12

### पजमिया

पजमिया 587.9 ⇌

### पजाया

भट्ठा 109.9

### पटंबर

रेशमी वस्त्र 579 10

### पट

अनुकृतिज 1020 12

उत्तरीय 585 7

काष्ठ पटल 990 6

घूंछट्ट 591 3

चित्र 404 1

देवता चित्र 404 3

धातु पटल 990 17

पट 486 25 ⇌

पटल 990 3

परदा 605 6

### पट-

प्रधान 852 10

महान 839 8

### पट

ययनिका 606 1

रेशमी वस्त्र 579 10

वस्त्र 579 1

समतल 986.9

सीमत भाग 223 19

सोदरशायी 1027.17

### पट (कुरती)

अधोमुख 1023.14

### पटक

कपास वस्त्र 579 11

### पटकथा

पटकथा 466.5 ⇌

### पटकन

पटकन 1062 20 ⇌

पटकनी 486 19

### पटकना

कपड़े छूटना 220 34

जीतना 912 12

जोर से धरना 1019 11

पटकना 1062.28 ⇌

बलात देना 638 10

### पटकनिया

धराशायिता 1027.8

पटकनी 486 19

### पटकनी

धराशायिता 1027.8

पटकनी 486.19 ⇌

### पटकनी खाना

धराशायी होना 1027 12

### पटकनी छाया

धराशायी 1027.22

पटकनी छाया 486.26 ⇌

### पटकनी खिलाना

जीतना 912.12

पटकनी खिलाना 486.24 ⇌

### पट कर्म

कपड़ा बुनाई 576.4

<b>पटका</b>	<b>पटरा करना</b>	<b>पटसन</b>	<b>पटाबट</b>
कमरबंद 571.8	समतल करना 986 8	पटसन 568.3 ⇌	समाकलन 947.8
पटकनी खाया 486.26	<b>पटरानी</b>	सन कपड़ा 579.12	समाशोधन 631 16
<b>पटका [पटकी]</b>	प्रधान पत्नी 803 7	<b>पटसन विछावन</b>	<b>पटाबट करना</b>
पटका [पटकी] 1062.38 ⇌	राजा. प्रधान पत्नी 882 18	टाट 593.50	समाकलन करना 947 18
<b>पटका उलटा</b>	<b>पटरा फिरना</b>	<b>पट समझ पूर्वंग सूची</b>	<b>पटाबदार</b>
थित 486 27	नष्ट होना 531 4	पट समझ पूर्वंग सूची 468.19 ⇌	पटाबदार 600.30 ⇌
<b>पटकार</b>	<b>पटरा फेरना</b>	<b>पट सोना</b>	<b>पटाबदार रास्ता</b>
कपड़ा बुनकर 576 5	नष्ट करना 531 5	पेट के बल सोना 1027 10	छतदार मार्ग 1083 24
<b>पटकी</b>	समतल करना 986 8	<b>पट स्थिति</b>	<b>पटावरण</b>
पटकन 1062 20	<b>पटरी</b>	अनुकितजिता 1020 5	परदा 605 6
पटकनी 486 19	कैटवाक 1065 4	<b>पटह</b>	<b>पटिया</b>
<b>पटकी खाया</b>	झूला: पटरी 1034 6	डुगडुगी 461 42	खाट पाटी 594 18
पटकनी खाया 486.26	निघली खपरेल 599.34	डोल 461 44	चतुर्भुज पाषाण पटल 990.20
<b>पटक्षेप</b>	पटरी 595 16 ⇌	नगाड़ा 481.58	चित्र फलक 404.31
यवनिका पात 606.3	रेल मार्ग 1086.14	प्रहार 918.1	तख्ती 415 3
<b>पटतरना</b>	सड़क पार्श्व 1064.1	<b>पटह घोषक</b>	पटरी 595 16
तुलना करना 309 10	सामंजस्य 702.1	मुनादी वाला 441 24	पटिया 990.7 ⇌
<b>पटतारना</b>	<b>पटरी बदलना</b>	<b>पटांबर</b>	सिल 560 18
समतल करना 986.8	दिशा बदलना 1098 18	रेशमी साड़ी 586 17	स्तर शैल 99 13
<b>पटनम</b>	<b>पटरी बैठना</b>	<b>पटा</b>	<b>चटिया पत्थर</b>
बंदरगाह 1069 8	घनिष्ठ होना 704.18	धारी 578.12	स्तर शैल 99 13
<b>पटना</b>	मित्र बनना 705 19	पटेबाज़ी पटा 924 13	<b>पटी</b>
घनिष्ठ होना 704 18	सामंजस्य होना 702 4	सीदा 658 3	क्रनात 605 8
नगर 620.10	<b>पटरी बाला</b>	<b>पटा [पटी]</b>	चतुर्भुज पाषाण पटल 990 20
परस्पर निर्वाह होना 703.8	पटरी बाला 661.13 ⇌	पटाबदार 600.30	पट्टी 571 1
प्रसन्न होना 381.4	<b>पट रेखा</b>	<b>पटाई</b>	यवनिका 606 1
बिहार राजधानी 28 53	क्षैतिज रेखा 968.21	गड़दा भराई 986 4	रंगीन वस्त्र 578.18
भरा जाना 1004 7	<b>पटल</b>	पटाय 600.3	<b>पटी नौका</b>
मित्र बनना 705.19	खेल पटल 479 36	समतलन 986 2	पटी नौका 1072.7 ⇌
सीदा तय होना 658.12	तल 985.1	<b>पटाक साला</b>	<b>पटीय</b>
<b>पटनी</b>	तह 975.15	पटाक साला 724 37 ⇌	वस्त्रीय 579.24
भूमि तल 612 3	दलबल 691.2	<b>पटाक साली</b>	<b>पटीर</b>
<b>पटपट</b>	पटल 990 5 ⇌	पटाक साली 724 42 ⇌	उच्च 982.7
पटपट 296 22 ⇌	भू पर्पटी 9 9	<b>पटाका</b>	कामदेव 773 12
<b>पटपटी</b>	मेज़ 595.33	आतिशबाज़ी सूची 56 6	बरगद 13 16
आतिशबाज़ी सूची 56.6	संस्तर 990.1	तमाथा 918 16	मेघ 55 1
<b>पटपड़</b>	<b>पटलक</b>	<b>पटाक्षेप</b>	मैदान 11.1
अनूप भूमि 25 25	आक 605.1	यवनिका पात 606.3	<b>पटीलना</b>
समतल 986.9	<b>पटलयुक्त</b>	<b>पटाना</b>	अजित करना 648.4
समतल भूमि 986.3	पटलित 990.31	श्रृण मोचन करना 633.29	कार्य समापन करना 522 3
<b>पटबीजना</b>	<b>पटला</b>	परिचय बढ़ाना 704.17	जीतना 912.12
जुगनू 122 22	पटरा 595.14	प्रसन्न करना 381 5	पिटाई करना 918.23
<b>पट मंडप</b>	<b>पटलित</b>	समाकलन करना 947.18	<b>पटु</b>
तड़ू 600 19	पटलित 990.31 ⇌	<b>पटापट</b>	कुटिल 818 7
<b>पटमात्रता</b>	<b>पटली</b>	शीघ्रतः 496.13	प्रवीण 303.22
अत्यल्पता 942 2	छप्पर 615.1	<b>पटाफेर</b>	<b>पटुआ</b>
<b>पटर पटर</b>	पटरी 595.16	पटाफेर 800.21 ⇌	परवल 189.25
पटपट 296.22	<b>पट जेटना</b>	<b>पटार</b>	सन 568.2
<b>पटरस</b>	पेट के बल सोना 1027 10	रेशम डोरी 570.3	<b>पटुका</b>
मछरंगा 128.82	<b>पटबारी</b>	संदूकधी 676.18	पटुका 588.5 ⇌
समतल 986.9	पटबारी 553.11 ⇌	<b>पटाब</b>	<b>पटुता</b>
<b>पटरा</b>	<b>पटबारी: बही</b>	गड़दा भराई 986.4	प्रवीणता 303.8
झूला: पटरी 1034.6	पटबारी: बही 553.12 ⇌	छत 611.11	<b>पटुका</b>
पटरा 595.14 ⇌	<b>पटबेशम</b>	छत: चौकाई 965 6	कमरबंद 571 8
पटैला 583.5	तड़ू 600.19	पटाय 600.3 ⇌	<b>पटेबाज़ी पटा</b>
पायदान 596.16	<b>पटशाथी</b>	पुल 1085.6	पटेबाज़ी पटा 924.13 ⇌
	सोदरशाथी 1027 17	समतलन 986.2	

## पटेल

पटेल  
ग्राम. मुखिया 892.6  
मुखिया 852 7  
पटेल  
पटी नौका 1072 7  
पटेल 563.5 ⇐  
पटेलो (अँ)  
आलू 189.7  
पटेल  
अर्गल 609 18  
पटोर  
रेशम 568 12  
पटोरी  
रेशमी 568 17  
रेशमी चादर 585.12  
रेशमी साड़ी 586 17  
पटोल  
परवल 189.25  
रेशमी वस्त्र 579 10  
पटोलक  
सीपी 124 19  
पटोलिका  
पेटी 676 20  
पटोली  
चादर 585 10  
पेटी 676.20  
पटोली  
छत 611.11  
छतदार मार्ग 1063 24  
पटोनी  
सोदा 658.3  
पट्ट  
उत्तरीय 585 7  
काष्ठ पटल 990 6  
जल उत्तल 985.5  
डाल 921.1  
तल 985 1  
पट 486 25  
पटल 990 3  
पट्टा 571 25  
पट्ट-  
प्रधान 852 10  
पट्ट  
रंगीन वस्त्र 578.18  
राज्यादेश 878 3  
पट्टक  
ताम्रपत्र 77.8  
पट्ट कृमि  
रेशम कीट 122 40  
पट्टज  
रेशम 568 12  
पट्टण  
नगर 620 10  
बंदरगाह 1069 8  
पट्टन  
बंदरगाह 1069 8  
पट्टमहिषी  
राजा. प्रधान पत्नी 882 18

पट्टा  
अधिभोग पत्र 622 4  
एकाधिकार 621 10  
काष्ठ पटल 990.6  
केश गुच्छ 137.5  
खरीता 444.2  
गला. पट्टा 555 14  
ग्राम 620.1  
घपरास 571.6  
घल पट्टा 1076.26  
दस्तावेज़ 412.19  
घज्जी 938 25  
पटल 990.3  
पट्टा 571.25 ⇐  
भूमि धारण पत्र 553 10  
लट 223 15  
सीमत भाग 223 19  
पट्टा करना  
पट्टा करना 622.19 ⇐  
पट्टाधारी  
पट्टेदार 622.21  
पट्टाफेर  
पट्टाफेर 800 21  
पट्टिका  
पट्टिया 990 7  
फ़ीता 571 26  
स्तर शैल 99.13  
पट्टिका वेत्र बाण विकल्प  
घोसठ कला सूची 397.4  
पट्टिशा  
पट्टेबाज़ी पट्टा 924.13  
पट्टी  
काष्ठ पटल 990 6  
खाट पाटी 594.18  
ग्राम 620.1  
घल पट्टा 1076.26  
घेपव्य सूची 1012.4  
छोटा ग्राम 620 4  
तख्ती 415 3  
दोड़ पट्टी 1083 31  
घज्जी 938.25  
पंक्ति 691.4  
पट्टका 588.5  
पट्टी 571.1 ⇐  
पट्टी पकाई 332 9  
बुरी सीख 332.8  
महल्ला 619 6  
लट 223.15  
ब्रण पट्टी 174.16  
साझा 621.6  
सीमत भाग 223 19  
पट्टीदार  
पट्टेदार 622.21  
पट्टीदारी  
साझेदारी 621.7  
पट्टी पकाई  
पट्टी पकाई 332.9 ⇐

पट्टी पकाना  
पट्टी पकाना 332.13 ⇐  
पट्टी पकाने वाली  
पट्टी पकाने वाली 332.17 ⇐  
पट्टी पैदाई  
मरहम पट्टी 174.17  
पट्टू  
पट्टू 580.29 ⇐  
पट्टे  
घुंघराले केश 137.13  
पट्टेदार  
घुंघराला 137.25  
पट्टेदार 622.21 ⇐  
पट्टेदारी  
पट्टेदारी 622 5  
पट्टा  
कुरतीबाज़ 486 9  
नवयुवक 231 2  
प्रतिनिधि योद्धा 934 18  
हिज्रोटिज्म पात्र 758.31  
पट्टा [पट्टी]  
बलिष्ठ 160 10  
पट्टी  
नवयुवती 231 3  
पट्टेदारी  
पट्टेदारी 622.5 ⇐  
पठता  
पठन कर्ता 321 53  
वाचयिता 399 9  
पठन  
अध्ययन 321 23  
पठन 321.27 ⇐  
शिक्षा अर्जन 321 22  
सस्वर वाचन 399.8  
पठन करना  
पढ़ना 321.36  
पठन कर्ता  
पठन कर्ता 321 53 ⇐  
पठनशील  
पठनशील 321 54 ⇐  
पठनीय  
पठनीय 400.14 ⇐  
सुलिखित 412.46  
पठनीय लिखाई  
सुलेख 412.10  
पठवना  
भेजना 1054.10  
पठवाई  
निष्कासन 1092 10  
प्रेषण 1054.1  
पठाना  
अवतारण करना 1080.36  
निकालना 1092 12  
भेजना 1054.10  
पठार  
पठार 16.2 ⇐  
पठार  
निष्कासन 1092.10

प्रेषण 1054.1  
पठारवन  
यान अवतारण 1080.8  
पठारवहार  
प्रेषक 1054.16  
पठित  
अध्ययित 321.50  
पठित 321.52 ⇐  
पठित: पुनर्पठन  
अनुपठन 321.28  
पठिया  
युवती 231.9  
पठारा  
पठारा 202.27 ⇐  
पठार  
नवयुवती 231 3  
पठारहार  
पठार 16.2  
पठानी  
प्रेषण 1054.1  
यान अवतारण 1080 8  
पठार  
पठनीय 400.14  
सुलिखित 412 46  
पठारता  
उत्पादन लागत 644.8  
दर 947.10  
लागत 644.7  
लाभ 646 2  
पठारताल  
तथ्यान्वेषण 336.1  
पठारताल  
निरीक्षण 284 16  
विकार परीक्षा 171.6  
सूक्ष्म निरीक्षण 284.18  
पठारतालना  
निरीक्षण करना 284.44  
पठारदादा  
परदादा 722 7  
पठारदादी  
परदादी 722.8  
पठारधेयता  
परधेयता 722.38  
पठारधेयती  
परधेयती 722.39  
पठार  
झड़न 1032 7  
पतन 1031.1  
फिसलन 1084.15  
शयन 1027.1  
पठारना  
अवनमित होना 1025.6  
काया शिथिल होना 159.8  
घटित होना 75.8  
झड़ना 1032.21  
धरा जाना 1019.9  
धराशायी होना 1027.12  
पतन होना 1031.15

प्रवृत्त होना 502.5	पङ्गोस 31.3 ⇨	पङ्गाना लिखाना	पण्य सामान समष्टि
रोगग्रस्त होना 182.4	पङ्गोस में	शिक्षण करना 321.32	स्टीक 666 9
लागत आना 644 17	निकट में 31 9	पङ्गा लिखा [पङ्गी लिखी]	पण्ययागार
लेटना 1027 9	पङ्गोसी	शिक्षित 321 41	वितरण केन्द्र 656 9
पङ्गनाना	निकटस्थ 31 7	पङ्गैया	पण्ययाजीव
परनाना 722 32	पङ्गोसी 31 4 ⇨	पठनशील 321 54	व्यापारी 657 2
पङ्गनानी	पङ्गोसी [पङ्गोसन]	पण	व्यापारी वैश्य 731 26
परनानी 722.33	पङ्गोसी 31.4	अनुबध 339 1	सार्थपति 657 14
पङ्गपङ्ग	पङ्गंत	दौंव 481 17	पतंग
पटपट 296.22	अभिमंत्रण 758 6	दौंव वस्तु 481 18	टिङ्गडा 122.25
प्रङ्गपङ्गाना	जादू 474 2	पण्य सामान 666.5	टिङ्गडी 122.26
पपङ्गियाना 990.29	रटत 356 4	प्रतिज्ञा 339 17	तितली 122 28
पङ्गपोता	पङ्गंता	वचन 339 15	पक्षी 126 1
परपोता 722 16	पठन कर्ता 321 53	विक्रेता 661 2	मधुमक्खी 122 39
पङ्गपोती	वाचयिता 399 9	पणछेन लामा	शालभ 122.42
परपोती 722 17	पङ्ग कर सुनाना	पचेन लामा 744 43	पतंग डोर
पङ्गया	वाचन करना 399 19	पणजी	पतंग डोर 569 10 ⇨
प्रतिपदा 44 7	पङ्गत	गोआ राजधानी 28 26	पतंग डोर. मौजा
मैस कटडा 230 18	अध्ययन 321 23	पणन	पतंग डोर मौजा 569 11 ⇨
पङ्गा	दस्तावेज 412 19	विपणन 658 1	पतंग डोर: सादा
पटकनी खाया 486.26	पठन 321 27	पणय	पतंग डोर सादा 569 12 ⇨
पङ्गा [पङ्गी]	पाठ 412 31	ढोल 461 44	पतंगम
अनुक्षितिज 1020.12	पङ्गन	पणयी	तितली 122.28
आधारित 1019 17	अध्ययन 321 23	शिय 767 1	शालभ 122 42
घराशायी 1027 22	पठन 321 27	पणस	पतंग यान
पतित 1031 24	शिक्षा अर्जन 321 22	पण्य सामान 666 5	ग्लाइडर 1074 7
शयित 1027.15	पङ्गना	पण सुंदरी	पतंगगा
पङ्गाई	अभिमंत्रण करना 758 33	वेश्या 807 5	कीट सूची 122 12
अयपातन 1031 3	जपना 749 39	पणित	धिगारी 106 11
पङ्गाना	पङ्गना 321 36 ⇨	विपणित 658 13	शालभ 122 42
घरना 1019 10	वाचन करना 399 19	पणी	पतंगिनी
पतित करना 1031 16	शिक्षा अर्जन करना 321 34	पण्य सामान 666 5	मादा पक्षी 126 2
पङ्गपण	पङ्गना लिखाना	पण्य	पतंगी
अनुक्षितिजता 1020 5	शिक्षा अर्जन करना 321.34	दुकान 662 1	पक्षी 126 1
शायिता 1027 7	पङ्गने की मैज़	विक्रेय 661.22	पतंगिका
पङ्गाव	रीडिंग टेबल 595.37	व्यापार 657 1	धनुष प्रत्यघा 926.15
अस्थायी वास 618 10	पङ्गने बाला	पण्यकामिनी	पतंगजलि
अस्थायी स्थान 618 15	अध्येता 321 51	वेश्या 807 5	ऋषि मुनि सूची 789 17
छद यति 452 36	पङ्गवैया	पण्य चिह्न	पत
मार्गस्थ पांथशाला 1090 26	पठन कर्ता 321 53	ट्रेडमार्क 621 17	कीर्तिस्य 621 9
सैनिक शिविर 933 11	पठनशील 321 54	पण्य दाङ्गु [पण्य दासी]	प्रतिष्ठा 849 2
पङ्गाव करना	पङ्गा [पङ्गी]	क्रीत दास 651 13	लज्जा 845 1
अस्थायी वास करना 618 21	अध्यीत 321 50	पण्यन	पतङ्गक
पङ्गाव डालना	पठित 321.52	विपणन 658 1	अवनति काल 535 2
अस्थायी वास करना 618 21	साक्षर 319 10	पण्यपति	पतङ्गक काल 52 2
पङ्गाव स्थान	पङ्गाई	धोक व्यापारी 657 4	पल्लव पतन 117 8
अस्थायी स्थान 618 15	अध्ययन 321.23	व्यापार अध्यक्ष 657 3	वय गणना उपमान सूची 229 12
पङ्गी काट	पठन 321 27	पण्य पतन	वृद्धता 232 2
पङ्गी काट 543.4 ⇨	शिक्षण 321 18	मंडी 663 8	पतङ्गक आना
पङ्गी पाई	शिक्षा 321 1	पण्य बस्तु	पल्लव गिरना 117 16
हिंदी वर्ण: शिरोरेखा 988 10	पङ्गाई लिखाई	पण्य सामान 666 5	पतङ्गक काल
पङ्गी रेखा	शिक्षा 321 1	पण्यवीथी	पतङ्गक काल 52 2 ⇨
क्षैतिज रेखा 988.21	पङ्गाकू	बाज़ार 663 1	पतङ्गक कालीन
पङ्गे रहना	पठनशील 321.54	पण्यशाला	पतङ्गक कालीन 52.4 ⇨
निरुचल रहना 1038.6	पङ्गाना	दुकान 662 1	पतङ्गक कालीन
प्रयत्न न करना 490.6	पट्टी पङ्गाना 332 13	बाज़ार 663 1	पतङ्गक कालीन 52 4
पङ्गोस	शिक्षण करना 321 32	पण्य सामान	पतङ्गकी
निकटता 31 1	सीख देना 332.12	पण्य सामान 666.5 ⇨	पतङ्गक कालीन 52.4

## पतझर

### पतझर

पतझर काल 52 2

### पतत

पतनशील 1031 25

### पतत्र

पख एक पर 151 8

### पतत्री

पक्षी 126 1

बाण 926 16

### पतन

अपकाष्ठा 535 3

अवनति 535 1

अयनमन 1025 3

अस्तगमन 5 10

आधार ग्रहण 1019 6

ऐटीक्लाइमैक्स 463 30

डूबन 169 4

ढहन 539 3

धराशायिता 1027 8

पतन 1031 1 ⇨

पस्ती 169 6

मार्गच्युति 1099 2

विवाह अनिच्छा 806 1

शक्ति नाश 488 2

हास 531 3

### पतन कर्ता

पतन कर्ता 1031 26 ⇨

### पतनकारी

अवनतिकारी 535 7

### पतन काल

अवनति काल 535 2

### पतनशील

अवनतिशील 535 6

ढहनशील 539 18

पतनशील 1031.25 ⇨

हासशील 531.12

### पतन होना

पतन होना 1031 15 ⇨

### पतनोन्मुख

अवनतिशील 535 6

अस्तगामी 5 31

पतनशील 1031 25

हासशील 531 12

### पत पानी

लज्जा 845 1

### पतम

पक्षी 126 1

### पतयालु

पतनशील 1031 25

### पतयिष्णु

पतनशील 1031 25

### पतवार

धातु पटल 990 17

पत्तर 990 23

### पतरी

धातु पटल 990 17

### पतरील

गश्ती पहरेदार 908 15

### पतला

छरहरा 154 30

लाइट 413 17

### पतला [पतली]

अप्रगाढ़ 80 8

कनकना [कनकनी] (स्वर) 299.27

क्षीणकाय 159 13

दुर्दशाग्रस्त 627 22

बारीक 965 13

लघुकाय 154 28

सकीर्ण 980 29

### पतला कागज़

अंतर्पत्र 1002 7

### पतला दुबला [पतली दुबली]

क्षीणकाय 159 13

### पतलापन

क्षीणकायता 159 4

बारीकी 965 9

संकीर्णता 980 11

### पतला पत्ता

अंतर्पत्र 1002 7

### पतला मोटा

विपरीतता उपमान सूची 310 13

### पतला शरीर

छरहरा शरीर 154 11

### पतली

छरहरी 154 31

### पतली कमर

पतली कमर 158 7 ⇨

### पतली कमर वाली

पतली कमर वाली 158.30 ⇨

### पतली कील

पतली कील 1016 9 ⇨

### पतली गोट

पतली गोट 571 36 ⇨

### पतली दीवार

अमुख्य दीवार 607 3

### पतली पट्टी

फीता 571 26

### पतली बिच्छा

पतली बिच्छा 216 4 ⇨

### पतली शाखा

प्रशाखा 114 11

### पतलून

पतलून 586 3 ⇨

### पतलून: पार्थ जेब

साइड पाकिट 672 3

### पतलून: पीछे की ओर जेब

हिप पाकिट 672 4

### पतलून: सामने की ओर छोटी जेब

टिकट पाकिट 672.2

### पतवार

क्युबद्ध 991 25

पंक्तिबद्ध 667 15

### पतवार

कर्ण 1073 2

खर पतवार 548 32

घण्टू 1073 6

### पतवार कुंडा

भैंसर कुंडा 1077.19

### पतवार यान

नीका सूची 1072 3

पतवारी नीका 1072 8

### पतवार सम्हालना

नीकायन करना 1080.31

### पतवारिया

कर्णधार 1080 19

### पतवारी

कर्णधार 1080 19

### पतवारी नीका

पतवारी नीका 1072 8 ⇨

### पता

अनुभव 303.4

गंतव्य स्थान 1100 2

ज्ञान 305 1

पता 444.13 ⇨

परिज्ञात 305.32

संज्ञात 441.18

### पताई

खर पतवार 548.32

### पता करना

तथ्यान्वेषण करना 336.16

'परिज्ञात करना 305 25

पूछना 333 19

### पताकांकुश

ध्वज दंड 408 5f

### पताका

ध्वजा 408 4

प्रतीक 408 1

प्रतीक चिह्न 408 2

### पताका दंड

ध्वज दंड 408 5

### पताका बहन

ध्वजा बहन 408 8

### पताका स्थानक

कथा सूचना 466 15

### पताकिनी

सेना 932 1

### पताकी

ध्वजा वाहक 408 18

### पता चलना

अपराध खुलना 866 18

### पता ठिकाना

पता निर्देश 444 14

### पता न चलने देना

गुप्तत करना 824 15

### पता न होना

ज्ञान न होना 306 10

### पता निर्देश

पता निर्देश 444.14 ⇨

### पता बताना

मार्ग दिखाना 1098.15

### पता लगाना

खोजना 336.17

गुप्तघरी करना 866 20

टोहना 336 22

परिज्ञात करना 305.25

पूछना 333.19

### पतावर

खर पतवार 548.32

### पतावा

जूता पातावा 588.35

### पतिवरा

स्वयंवर 799 19

### पति

पति 803.5 ⇨

परष्ठा निषिद्ध संबंधी सूची 591 7

प्रवीण व्यक्ति 303 9

विद्वान व्यक्ति 319 2

स्यामी 621 2

### पतिआर

विश्वसनीय 340 13

### पति कामिनी

विवाह आकाक्षिणी 799 62

### पतिगृह गमन

बिदायगी 800 31

### पति घवन

स्वयंवर विवाह 799 18

### पतिज

वैध 716 19

### पतित

अपकाष्ठागत 535 8

अवनत 535 5

जाति निर्वासित 870 28

दुश्चरित्र 811 5

पतित 1031 24 ⇨

पराजित 913 5

पापी 812.12

लक्ष्य च्युत 931 23

व्यभिचारी 806 10

पतित [पतिता]

धर्मच्युत 742 32

### पतित करना

पतित करना 1031 16 ⇨

### पतितता

दुश्चरित्रता 811.1

विवाह अनिच्छा 806.1

### पतितपावन

ईश्वर 764 1

सगुण ब्रह्म 764 29

### पतिता

व्यभिचारिणी 806 11

### पतित्याग

पति परित्याग 804 3

### पति: दादा

दादसरा 724.8

### पति: दादी

दादस 724.9

### पतिदेवा

पतिव्रता 805.6

### पति धल्नी

दंपती 803 4

स्त्री पुरुष 236.1



## पत्नीजीवी

पत्नीजीवी  
 दारावलंबी 648.13  
 पत्नी: दादा  
 दादसरा 724.8  
 पत्नी: दादी  
 दादस 724.9  
 पत्नी दास  
 पत्नी सेवक 805.9  
 पत्नीधन  
 पत्नीधन 802.3 ⇌  
 पत्नी: पिता  
 ससुर 724.6  
 पत्नीपुत्रवान पुरुष  
 पत्नीपुत्रवान पुरुष 236.18 ⇌  
 पत्नीपुत्रहीन पुरुष  
 पत्नीपुत्रहीन पुरुष 236.19 ⇌  
 पत्नी भाव  
 स्त्री भाव 752.19  
 पत्नी भरना  
 विधुर होना 804.25  
 पत्नी: माता  
 सास 724.7  
 पत्नी मृत्यु  
 विधुरता 804.18  
 पत्नीयुक्त  
 सधुर 803.17  
 पत्नीयुक्तता  
 सधुरता 803.16  
 पत्नी लंघन  
 बहुपत्नीत्व 799.11  
 पत्नीव्रत  
 पत्नीव्रत 805.5 ⇌  
 पत्नी संहित  
 सपत्नीक 803.20  
 पत्नी सेवक  
 पत्नी सेवक 805.9 ⇌  
 पत्नीहीनता  
 पत्नीहीनता 804.13 ⇌  
 विधुरता 804.18  
 पत्र पुष्प  
 तुच्छ उपहार 640.3  
 पत्र पुष्प 750.10 ⇌  
 पत्र  
 अधिभोग पत्र 622.4  
 कागज़ 415.9  
 कागज़: शीट 415.10  
 धातु पटल 990.17  
 पेंखड़ी 938.26  
 पटल 990.3  
 पत्तर 990.23  
 पत्र 444.1 ⇌  
 पल्लव 115.1  
 समाचार पत्र 445.1  
 सम्मान फलक 857.14  
 पत्र अनुलग्नक  
 पत्र अनुलग्नक 444.4 ⇌  
 पत्रक  
 परिचय पत्र 704.4

पल्लव 115.1  
 हैडबिल 442.12  
 पत्रकार  
 पत्रकार 445.8 ⇌  
 पत्रकारिता  
 पत्रकारिता 445.7 ⇌  
 संपादन 445.11  
 समाचार प्रेषण 445.17  
 पत्रज  
 तेजपात 281.19  
 पत्र पत्रिका: अंक  
 पत्र पत्रिका अंक 445.3 ⇌  
 पत्र पत्रिका: अतिरिक्त पन्ना  
 प्रविष्टक 1002.8  
 पत्र पत्रिका पुस्तक: संस्करण  
 पत्र पत्रिका पुस्तक संस्करण 445.5 ⇌  
 पत्र पत्रिका विक्रेता सूची  
 पत्र पत्रिका विक्रेता सूची 420.7 ⇌  
 पत्र पत्रिका: सामग्री  
 पत्र पत्रिका: सामग्री 445.6 ⇌  
 पत्र पिशाचिका  
 पल्लव छाता 584.30  
 पत्र पुष्प  
 पत्र पुष्प 750.10  
 पत्र प्रतिनिधि  
 संपादक सूची 445.16  
 संवाददाता 445.22  
 पत्र मित्र  
 पत्र मित्र 705.14 ⇌  
 पत्र वहन  
 पत्र वहन 444.17 ⇌  
 पत्रयाल  
 डॉड 1073.5  
 पत्रवाह  
 पत्र वाहक 444.18  
 पत्र वाहक  
 पत्र वाहक 444.18 ⇌  
 पत्र व्यवहार  
 पत्र व्यवहार 444.5 ⇌  
 पत्रशीर्ष  
 लेटर हैड 444.6  
 पत्र शीर्षक  
 लेटर हैड 444.6  
 पत्रांक  
 मोजपत्र 415.8  
 पत्रांत  
 पत्रांत 444.7 ⇌  
 पत्रांत: स्तुति आदि सूची  
 पत्रांत स्तुति आदि सूची 444.42 ⇌  
 पत्रा  
 पद्याग 41.1  
 पत्राचार  
 पत्र व्यवहार 444.5  
 पत्रारंभ: संबोधन आदि सूची  
 पत्रारंभ संबोधन आदि सूची 444.41 ⇌  
 पत्राली  
 फ्राइल 417.1

पत्रावली  
 फ्राइल 417.1  
 पत्रिका  
 कागज़ पटल 990.5  
 पत्र 444.1  
 पत्रिका 445.2 ⇌  
 पल्लव 115.1  
 विवाह निमंत्रण पत्र 1056.3  
 पत्रिका कर्मी  
 पत्रिका कर्मी 445.9 ⇌  
 पत्रिका खंड संपादक  
 संपादक सूची 445.16  
 पत्रिका: सामग्री  
 पत्र पत्रिका: सामग्री 445.6  
 पत्रिणी  
 नव पल्लव 115.2  
 पत्री  
 कागज़ पटल 990.5  
 जन्म कुंडली 261.7  
 पद्याग 41.1  
 पक्षी 126.1  
 पत्र 444.1  
 पत्रोत्तर  
 पत्रोत्तर 444.3 ⇌  
 पत्रोत्तर अपेक्षा  
 पत्रोत्तर अपेक्षा 444.40 ⇌  
 पत्रोत्तर अपेक्षित  
 पत्रोत्तर अपेक्षित 444.40  
 पत्रोत्तर हैं  
 पत्रोत्तर अपेक्षा 444.40  
 पत्रीषध  
 पत्रीषध 176.5 ⇌  
 पथ  
 कार्य विधि 514.1.  
 धर्म 735.1  
 मार्ग 1063.1  
 सड़क 1063.33  
 पथक  
 अग्रगामी मार्ग प्रदर्शक 1098.5  
 पथ कर  
 पथ कर 647.22 ⇌  
 पथ क्रम  
 यात्रा मार्ग 1087.26  
 पथग  
 यात्री 1087.2  
 पथ गमन  
 मार्ग गमन 1098.1  
 पथधित्र  
 पथधित्र 1087.27 ⇌  
 पथज्ञ  
 मार्ग ज्ञाता 1098.22  
 पथ ज्ञान  
 मार्ग ज्ञान 1098.2  
 पथदृष्टा  
 मार्ग ज्ञाता 1098.22  
 पथ निर्देश  
 विधि निर्देश 514.2

पथ पार्थक्य  
 मार्ग पार्थक्य 1098.11  
 पथपाल  
 मार्ग रक्षक 1067.20  
 पथप्रज्ञ  
 मार्ग ज्ञाता 1098.22  
 पथ प्रदर्शक  
 ईसा 791.8  
 उत्तर ध्रुव तारा 3.12  
 निर्देशक 347.17  
 नीकायन पाइलट 1080.27  
 पर्यटन प्रदर्शक 1090.18  
 मार्ग प्रदर्शक 1098.4  
 पथ प्रदर्शन  
 मार्ग प्रदर्शन 1098.3  
 पथ प्रदर्शिका  
 पथ प्रदर्शिका 1087.28 ⇌  
 पथभ्रष्ट  
 दुश्चरित्र 811.5  
 धर्मच्युत 742.32  
 मार्गच्युत 1099.8  
 पथभ्रष्टता  
 दुश्चरित्रता 811.1  
 मार्गच्युति 1099.2  
 पथ मानधित्र  
 पथधित्र 1087.27  
 पथराया [पथराई]  
 पाषाणीभूत 99.16  
 पथरी  
 कंकड़ी 938.36  
 कंकरीट 938.37.  
 कुंड़ी 679.45  
 चक्रमक्र 107.6  
 पथरी 166.6 ⇌  
 पाषाण पटल 990.19  
 रोड़ी 938.49  
 पथरीला [पथरीली]  
 कठोर 269.17  
 घट्टानी 99.17  
 पथरीला [पथरीली] 987.8 ⇌  
 पथरीलापन  
 असमतलता 987.1  
 पथरीला प्रवाह  
 तीव्र नदी 20.6  
 पथरीली भूमि  
 असमतल भूमि 987.2  
 पथरीली भूमि 987.3 ⇌  
 पथरीटा  
 पथर बरतन 680.6  
 पथरीका  
 पथाई स्थल 545.13  
 पथशील  
 संक्रमणशील 1091.15  
 पथहीन  
 मार्गच्युत 1099.8  
 पथाई  
 पथाई 545.11 ⇌



पथाई स्थल  
पथाई स्थल 545.13 ⇐  
पथातिथि  
यात्री 1087 2  
पथानुगमन  
मार्गानुगमन 1098.6  
पथानुगामी  
मार्गानुगामी 1098.23  
पथाहार  
यात्रा आहार 199 6  
पथिक  
यात्री 1087 2  
पथिक रक्षक देवियों  
सिद्धि देवी 774 100  
पथिक रक्षक देवी  
मार्गवती 774 71  
पथिक वधु  
प्रोषितपतिका नायिका 456 11  
पथिका  
पथचित्र 1087 27  
पथिकालय  
पाथशाला 1090 25  
पथिकाश्रय  
पांथशाला 1090 25  
पथी  
यात्रा मार्ग 1087.26  
यात्री 1087 2  
पथीय  
मार्गीय 1063 54  
पथेरा [फथेरी]  
कुम्भकार 680 34  
पथैया  
पथैया 545.12 ⇐  
पथोपदेशक  
मार्ग प्रदर्शक 1098 4  
पथीरा  
पथाई स्थल 545.13  
पथ्य  
आहार पदार्थ 186.1  
आहार्य 197.22  
पथ्याहार 182.7  
सुपथ्याहार 182.9  
सुपाथ्य 178.8  
पथ्यता  
आहार्यता 197.12  
पथ्या  
मार्ग 1063 1  
हड़ 281.37  
पथ्याहार  
पथ्याहार 182.7 ⇐  
सुपथ्याहार 182.9  
पद  
एक पद 1083.2  
कारक विभक्ति 425.29  
काव्य पद 452.46  
गीत 451.19  
गीत. अंतरा 451.22  
गीत: पद 451.21

गोटी: घर 479.2  
चरण 150.9  
छंद 452.1  
ताल पद 458.30  
पदधिहन 867.4  
पदवी 652.1  
पूजा गीत 749.25  
पैर 149.12  
मूल 112.10  
रूपांतरित शब्द 423 10  
वर्गमूल 955 11  
वाक्यांश 424 9  
विषय 437 7  
व्यवसाय 650 9  
शब्द 423.1  
शेअर 452.27  
पद अन्वय  
पद अन्वय 427.5 ⇐  
पद आघात  
ठोकर 1084 10  
पद आवेदक  
पद आवेदक 653.31 ⇐  
पद आवेदकता  
पद आवेदकता 653.4 ⇐  
पद आवेदन  
पद आवेदन 653 3 ⇐  
पद आवेदन करना  
पद आवेदन करना 653 23 ⇐  
पद आवेदन पत्र  
पद आवेदन पत्र 653.5 ⇐  
पद आहट  
पद आहट 297 2 ⇐  
पदक  
पदक 857.7 ⇐  
विष्णुपद मूर्ति 746 8  
पद क्रम  
प्रथाक्रम 991 11  
पदक्षेप  
पदन्यास 1083 3  
पदग  
पदचर 1083.25  
पैदल सैनिक 934 7  
पद ग्रहण  
कार्य ग्रहण 653 11  
पदघर  
पदघर 1083.25 ⇐  
पदघर जीव  
पदघर जीव 121.9 ⇐  
पद चरण  
पद चरण 1083.1 ⇐  
पदचरः (प्र)  
पदचर जीव 121.9  
पदचर्या  
पद चरण 1083 1  
पद चर्या  
पद रंजन 225 31  
पदघाम  
पद आहट 297.2

पद चारण  
पद चरण 1083 1  
पदचारी  
पदचर 1083 25  
पदधिहन  
पदधिहन 867 4 ⇐  
विष्णुपद मूर्ति 746.8  
पदधिहन तलारा  
पगधिहन तलारा 336 10  
पदच्छेद  
पद अन्वय 427 5  
पदच्युत  
च्युत 653 36  
पदच्युति  
सत्ता च्युति 902 3  
सेवा च्युति 653.15  
पदछाप  
पदधिहन 867 4  
पदतल  
तलवा 150 10  
पदभाग  
जूता 588 14  
पादत्राण 588 9  
पददलान  
अत्याचार 835 3  
पददलन 911 5 ⇐  
पददलन कर्ता  
पददलन कर्ता 911 17 ⇐  
पददलित  
पददलित 911.16 ⇐  
पददलित करना  
पददलित करना 911.9 ⇐  
पद देना  
नियुक्त करना 653 24  
पद धनि  
पद आहट 297 2  
पद नाम  
पद नाम 652.2 ⇐  
पद नियुक्ति  
पद नियुक्ति 653.6 ⇐  
पदन्यास  
पदन्यास 1083.3 ⇐  
पदन्यास करना  
पदन्यास करना 1083 19 ⇐  
पद पंकज  
चरण कमल 158 10  
पद परिधान  
पद परिधान 588 4 ⇐  
पद पूरण  
काव्य समस्या पूर्ति 694 13  
पद पूर्ति  
वाक्य पूर्ति 424.3  
पद पूर्ति कर्ता  
नियुक्त कर्ता 653.33  
पद प्रक्षालन  
पद प्रक्षालन 1059.18 ⇐  
पद प्रक्षालन जल  
पाद्य 750.6

पद प्रति पद  
पद प्रति पद 1083.29 ⇐  
पद प्रहार  
पद प्रहार 918 19 ⇐  
पद प्रहार करना  
पद प्रहार करना 916 29 ⇐  
पद प्रहारित  
पद प्रहारित 918.38 ⇐  
पदबंध  
पदन्यास 1083 3  
पद भंजन  
पद अन्वय 427 5  
पदम  
कमल 14 4  
पदभाला  
वशीकरण विद्या 758 20  
पदभूल  
विष्णुपद मूर्ति 746 8  
पद मैत्री  
अनुप्रास अलकार 454.9  
पदयात्रा  
पद चरण 1083 1  
पदयात्रा 1087 8 ⇐  
पदयात्री  
पदचर 1083 25  
पद योजना  
वाक्य रचना 424 2  
पद रंजन  
पद रंजन 225.31 ⇐  
पद रज  
चरण घृति 100 5  
पद रिक्ति  
पद रिक्ति 653.1 ⇐  
पद लालित्य  
शब्दालकार 454 8  
पद विग्रह  
पद अन्वय 427 5  
पदवी  
उपाधि 856 1  
पदवी 652 1 ⇐  
मार्ग 1063.1  
शिक्षा उपाधि 322 26  
पदवीधारी  
अलकृत 854 23  
पदाधिकारी 652 4  
पद संचालन  
पद संचालन 462.24 ⇐  
पद संचालना  
कार्य ग्रहण करना 653.25  
पद समुदाय  
वाक्यांश 424 9  
पद सुकुमारता  
काव्य गुण सूची 453.4  
पद सेना  
पद सेना 932 12 ⇐  
पद सैनिक  
पैदल सैनिक 934 7

पदस्थ करना

पदस्थ करना  
नियुक्त करना 653.24  
पदस्थीकरण  
पद नियुक्ति 653 6  
पदस्थीकृत  
नियुक्त 653.32  
पदांक  
पदधिहन 867.4  
पदांश  
काव्य पदांश 452 47  
पदाक्रांत  
पददलित 911 16  
पदाधात  
पद प्रहार 918 19  
पदाति  
पदघर 1083.25  
पद सेना 932 12  
पदल सैनिक 934 7  
पदातिक  
पदघर 1083 25  
पदल सैनिक 934 7  
पदातिक सेना  
पद सेना 932 12  
पदातिक।  
पद सेना 932 12  
पदासी  
पदल सैनिक 934 7  
पदाधिकारार्थ प्रदत्त भूमि  
जागीर मनसबी 553 18  
पदाधिकारिता  
पदाधिकारिता 652.3 ⇨  
पदाधिकारी  
पदाधिकारी 652 4 ⇨  
पदानुग  
अनुघर 696 16  
धार्मिक जन साधारण 743 1  
सहयात्री 1088 2  
पदानुसुरण  
अनुघर 696 16  
पदानुसर  
अनुगामी 1096 10  
पदानुसरण  
अनुगमन 1096 2  
पदान्वय  
वाक्य अन्वय 427 4  
पदापाहरण  
सेवा द्युति 653 15  
पदाभिषक्त  
नियुक्त 653 32  
पदाबंध  
वस्तु 666 1  
पदाबंध  
घरण कमल 158 10  
पदार्थ  
अभिधार्थ 426 4  
जड़ पदार्थ 78 5  
वस्तु 666 1  
सामान 666 3

पदार्थ अवस्था  
पदार्थ अवस्था 79 1 ⇨  
पदार्थ एकमात्र सत्य है  
भौतिकतावाद 760.22  
पदार्थ जगत  
जड़ जगत 78 3  
पदार्थ ज्ञान  
विज्ञान 307 1  
पदार्थता  
जड़ता 78 4  
वास्तविकता 820 13  
पदार्थवाद  
भौतिकतावाद 760 22  
पदार्थ सार  
सार 84 16  
पदार्थभिनयो नाट्यम्  
नृत्य नाट्य 462 2  
पदार्थीय  
तत्त्वीय 78 24  
पदार्पण  
गृह प्रवेश 598 6  
प्रवेशन 1094 3  
शुभागमन 1093 2  
पदावनति  
पदावनति 653.13 ⇨  
पदायसी  
काव्य सकलन 446 24  
भजन संकलन 446 25  
शब्दायली 421 19  
पदाश्रय  
पदाश्रय 596 18 ⇨  
पदासीनन  
पद नियुक्ति 653 6  
पदिक  
पदघर 1083 25  
पदल सैनिक 934 7  
पदी  
पदल सैनिक 934 7  
पदीय  
पदीय 149 20 ⇨  
पदीय  
कर्मेन्द्रिय सूची 268 8  
पदीदक  
घरणामृत 750.8  
पदीप्रति  
पदीप्रति 653 12 ⇨  
पद्वति  
कला शैली 397 14  
कार्य विधि 514 1  
काव्य प्रवृत्ति 453 13  
क्रम 991.1  
धर्म 735 1  
धर्म ग्रंथ 738.1  
परपरा 795 1  
परिपाटी 514 9  
मार्ग 1063 1  
पद्वतिहीन  
क्रमहीन 992 5

पद्वतिहीनतः  
क्रमहीनतः 992 7  
पद्वतिहीनता  
क्रमहीनता 992.1  
पद्वतीय  
क्रमीय 991 20  
पद्वी  
पीठ 147 8  
पद्वम  
आठ नागराज सूची 778 18  
कमल 14 4  
कुबेर. नवनिधि सूची 779.12  
हलका लाल 289 62  
पद्वमकंद  
कमल मूल 112 14  
पद्वमक  
पदमासन 756 20  
पद्वमकर  
सूर्य 8 1  
पद्वमकरा  
लक्ष्मी 775 1  
पद्वमकोश  
कमल कोश 112 8  
पद्वमगर्भ  
ब्रह्मा 766 1  
पद्वमगुणा  
लक्ष्मी 775.1  
पद्वमनयन  
कमलनयन 158.16  
पद्वमनाभि  
विष्णु 768 1  
पद्वमनेत्र  
बोधिसत्त्व सूची 793.16  
विष्णु 768 1  
पद्वमपाणि  
कमल पाणि 158 9  
पद्वमपाणि  
बोधिसत्त्व सूची 793 16  
ब्रह्मा 766 1  
विष्णु 768.1  
सूर्य 8.1  
पद्वमपुराण  
पुराण सूची 740 17  
पद्वमप्रभ  
तीर्थकर सूची 792 2  
पद्वमभिद्या  
मनसा 774 62  
पद्वमबंधु  
भ्रमर 122 33  
सूर्य 8 1  
पद्वमभूषण  
भारतीय अलंकार सूची 854.14  
पद्वममालिनी  
लक्ष्मी 775 1  
पद्वमराग  
नवरत्न सूची 96.7  
माणिक 96.22

पद्वमराज  
माणिक 96.22  
पद्वमलांछन  
कुबेर 779 4  
ब्रह्मा 766 1  
पद्वमलांछना  
तारा देवी 774.39  
सरस्वती 775.8  
पद्वमलोचन  
कमलनयन 158 16  
विष्णु 768.1  
पद्वमलोचना  
कमलनयना 158 17  
पद्वमविभूषण  
भारतीय अलंकार सूची 854.14  
पद्वमश्री  
भारतीय अलंकार सूची 854.14  
पद्वमसरोवर  
कमल सरोवर 18 3  
पद्वमहस्ता  
लक्ष्मी 775 1  
पद्वमहास  
विष्णु 768 1  
पद्वमा  
कल्कि पत्नी 769 17  
गेंदा 14 14  
मनसा 774 62  
लक्ष्मी 775.1  
पद्वमाकर  
कमल सरोवर 18 3  
जलाशय 18 2  
पद्वमालय  
ब्रह्मा 766 1  
पद्वमालया  
लक्ष्मी 775 1  
लींग 281 30  
पद्वमायती  
अप्सरा सूची 782.3  
मनसा 774 62  
पद्वमासन  
पदमासन 756.20 ⇨  
ब्रह्मा 766.1  
योग आसन सूची 756.19  
शिय 767 1  
पद्वमासन (वे.)  
बैठना मुद्रा सूची 1028 5  
पद्विमनी  
कमल सरोवर 18.3  
मादा हाथी 127 39  
स्त्री भेद सूची 236 8  
पद्विमनी कांत  
सूर्य 8 1  
पद्य  
पद्य 451.4 ⇨  
शाब्दीय 423 12  
पद्य काव्य  
पद्य 451.4

पद्यबद्ध  
छन्दबद्ध 452.53  
पद्यमय  
पद्यात्मक 451.31  
पद्य लेखक  
कवि 448.13  
पद्य संतुलन  
छन्द संतुलन 452.33  
पद्या  
पगडडी 1063.47  
सङ्क पार्श्व 1064.1  
पद्यात्मक  
पद्यात्मक 451.31 ⇌  
पधरना  
बैठना 1028.8  
पधराना  
धरना 1019.10  
पधारना  
बैठना 1028.8  
शुभागमन करना 1093.7  
पन-  
जल 68.1  
पन  
जीवन अवस्था 229.15  
पन-  
पौघ 948.25  
पन  
प्रतिज्ञा 339.17  
पनकाल  
अति वर्षा 54.6  
पनकुकरी  
जलपक्षी सूची 126.7  
पनकुकरी 126.47 ⇌  
पनगाद्या  
सिंधित खेत 551.15  
पनघट  
कुआँ: घबूतरा 610.11  
पनघट 19.9 ⇌  
पनधिरा  
जलपक्षी सूची 126.7  
पनडब्बा  
पात्रदान 213.28  
पनडुब्बा  
जलपक्षी सूची 126.7  
पनडुब्बा 126.48 ⇌  
पनडुब्बा 483.15 ⇌  
पनडुब्बापन  
पनडुब्बापन 483.14 ⇌  
पनडुब्बी  
पनडुब्बी 1072.39 ⇌  
पनतिरी 126.49  
पनडुब्बी ऊपर आना  
पनडुब्बी ऊपर आना 1080.39 ⇌ पनहैकी  
पनडुब्बी नीकायन  
पनडुब्बी नीकायन 1080.12 ⇌ पना  
पनतिरी  
पनतिरी 126.49 ⇌  
बरगाबी 126.86

पनपना  
उन्नत होना 534.8  
पल्लव निकलना 117.15  
वनस्पतियुक्त होना 111.29  
विकसित होना 534.9  
समृद्ध होना 626.10  
पनबाकी  
पान: खेत 551.8  
पनभता  
भात 202.5  
पनभर  
पनहार 19.25  
पनभरा [पनभरिन]  
पनहार 19.25  
पनलवा  
जलपक्षी सूची 126.7  
पनवा  
पनडुब्बा 126.48  
पनवाङ्गन  
पनवाङ्गिन 213.25  
पनवाङ्गिन  
पनवाङ्गिन 213.25 ⇌  
पनवाङ्गी  
पनवाङ्गी 213.24 ⇌  
पनवार  
पत्तल 685.4  
पनस  
कटहल 189.9  
सर्प सूची 123.16  
पनसाल  
प्याऊ 207.11  
पनसुइया  
नीका सूची 1072.3  
पनसुइया 1072.19 ⇌  
पनसोई  
पनसुइया 1072.19  
पनहका  
पनहका 213.26 ⇌  
पनहारा [पनहारी]  
पनहार 19.25  
पनहा  
वस्त्र: चौकाई 579.20  
पनहार  
पनहार 19.25 ⇌  
पनहार [पनहारिन]  
पनहार 19.25  
पनहारा [पनहारी]  
पनहार 19.25  
पनहिवा  
जूता 588.14  
पनही  
जूता 588.14  
पनहका 213.26  
पना  
पना 208.16 ⇌  
वस्त्र: चौकाई 579.20

पनातिन  
परधेवती 722.39  
पनाती  
परधेवता 722.38  
पनार  
जलधारा 21.15  
परनाला 23.9  
पनारी  
जलधारा 21.15  
पनाला  
परनाला 23.9  
पनाली  
जलधारा 21.15  
नाली 23.12  
पनालीदार  
कौरुगेटिड 974.22  
पनाह  
शरण 910.4  
पनाहगाह  
शरण स्थल 910.5  
पनाह देना  
शरण देना 910.8  
पनि-  
जल 88.1  
पनिगर  
जलयुक्त 88.23  
पनियर  
जलयुक्त 88.23  
पनियल  
आई 88.27  
जलयुक्त 88.23  
पनियाना  
तराई करना 88.21  
पनियाला [पनियाली]  
जलयुक्त 88.23  
पनिहा  
जलयुक्त 88.23  
जलीय 88.22  
पनी  
कृतप्रतिज्ञा 339.44  
पत्री 283.17  
पनीर  
पनीर 193.14 ⇌  
साग सब्जी सूची 189.4  
पनीर जल  
पनीर जल 193.15 ⇌  
पनीर: रसगुल्ला  
बंगाली रसगुल्ला 203.35  
पनीरी  
पीद 113.5  
पीद: क्यारी 551.18  
पनीला [पनीली]  
आई 88.27  
जलयुक्त 88.23  
पनीलापन  
आईता 88.16  
पनेरी  
पीद: क्यारी 551.18

पनेवा  
जलपक्षी सूची 126.7  
पनीटी  
पानदान 213.28  
पन्न  
व्यतीत 74.3  
सरका [सरकी] 1084.50  
पन्नग  
सर्प 123.10  
पन्नगारि  
गरुड 777.15  
पन्नगिनी  
मादा सर्प 123.11  
पन्नगी  
मादा सर्प 123.11  
पन्ना  
कागज पटल 990.5  
कागज़: शीट 415.10  
नवरत्न सूची 96.7  
पत्तर 990.23.  
पना 208.16  
पन्ना 96.13 ⇌  
पूछ 447.20  
प्लास्टिक 581.1  
रत्न सूची 96.5  
पन्नी  
पन्नी 283.17 ⇌  
प्लास्टिक 581.1  
पपकाया [पपकाई]  
शिकनदार 975.28  
पपकिया  
पपकीदार 990.32  
पपकियाना  
पपकियाना 990.29 ⇌  
पपकियावा [पपकियाई]  
पपकीदार 990.32  
पपकियाव  
पपकियाव 990.25 ⇌  
पपकी  
उत्तल सूची 985.21  
खुरधा पदार्थ 542.8  
गोलगम्पा 200.12  
सुरी 134.11  
पपकी 990.24 ⇌  
ब्रण अकुर 167.13  
ब्रण खुरंड 167.14  
शिकन 975.7  
पपकीवार  
पपकीदार 990.32 ⇌  
शिकनदार 975.28  
पपकी पन्नना  
पपकियाना 990.29  
पपकीला [पपकीली]  
कुरकुरा [कुरकुरी] 197.29  
पपकीदार 990.32  
शिकनदार 975.28  
पपीता  
खाद्य फल सूची 190.2

पपीहरा

पपीता 190.24 ⇨

पपीहरा

घातक 126 39

पपीहा

घातक 126 39

पपीहा: बोली

पीपी 298 17

पपेट (अँ)

पुतली 406 6

पपेट (अँ)

कठपुतली 473 5

गुङ्गिया 480 7

पपैया

सीटी 461.90

पपोटा

फलक 141 13

पपोल

पपोल 181.22 ⇨

पपोलना

पपोलना 181.47 ⇨

पपोलने बाला

पपोलने बाला 181.60 ⇨

पपोस्तू

पपोलने बाला 181 60

पप्पा

पिता 717 4

पप्पू

पिता 717 4

पक्किन (अँ)

जलपक्षी सूची 126 7

पब (अँ)

मद्यशाला 209.36

पबि

अग्नि 106 1

पब्बि

अग्नि 106 1

इंद्र वज्र 928 8

बाण 926 16

बाण अग्रभाग 926 18

भाला नोक 925 7

पब्लिक (अँ)

कला उपभोक्ता गण 399.3

जनता 883.5

राष्ट्रीयकृत 635.19

पब्लिक गार्डन (अँ)

सार्वजनिक उपवन 12 16

पब्लिक ट्रांसपोर्ट (अँ)

जन वाहन 1068.2

बस 1071.60

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (अँ)

निर्माण विभाग 599 7

पब्लिक स्कूल (अँ)

शिक्षालय सूची 321.11

पब्लिश करना

प्रकाशित करना 420.8

पब्लिशर (अँ)

प्रकाशन कर्ता 420.3

पब्लिशिंग (अँ)

प्रकाशन कर्म 420.4

प्रकाशन व्यवसाय 420.1

पब्लिशिंग हाउस (अँ)

प्रकाशनालय 420 2

पब्लिशर (अँ)

प्रकाशित 420.9

पब्लिसिटी (अँ)

प्रचार 442 1

पब्लिसिस्ट (अँ)

प्रचारक 442 19

प्रचार कर्मी 442 2

पमपम

होर्न 461.92

होर्न ध्वनि 296.16

पयंबर

पैगंबर 791 1

पयंबररी

ईश्वरीय संदेश वहन 443 7

पैगंबर विषयक 791 29

संदेश वहन 443 2

पय

जल 88 1

दूध 193.2

पयस्व

जतीय 88 22

पयस्या

दही 193 9

पयस्थान

जलयुक्त 88 23

पयस्थिनी

दुधार 554.28

नदी 20.1

बकरी 127.22

पयादा

पैदल सैनिक 934 7

पयाम

गमन 1091 1

प्रयाण 907.25

संदेश 443 1

पयाल

सूखा डेठल 114.4

पयोद

जलद 88 25

पयोधर

नारियल 13.11

मेघ 55 1

स्त्री स्तन 146.7

पयोधरा

स्तनवती 146 15

पयोधारा

स्नान फुहारा 221 18

पयोधि

समुद्र 24 1

पयोष्णी

पौराणिक नदी सूची 20 23

परंब

और भी 945.11

किंतु 507 16

तदापि 507.15

परंज

इंद्र: खड्ग 924 4

तेल कोल्डू 83 8

फेन 88 15

परंजय

वरुण 773.43

शत्रु विजेता 912 19

शिय 767.1

परंजा

शस्त्र ध्वनि 296.17

परंतप

अर्जुन 771.36

वीर पुरुष 396 2

शत्रु विजेता 912 19

शिय 767.1

परंतु

किंतु 507 16

परंतुक

परंतुक 339.10 ⇨

परंतुकतः

परंतुकत 339.50 ⇨

परंतुकता

परंतुकता 339.9 ⇨

परंतुकता: उक्ति सूची

परंतुकता. उक्ति सूची 339.54 ⇨

परंतुकता न होना

परंतुकता न होना 339 26 ⇨

परंतुकतापूर्ण

परंतुकतापूर्ण 339.37 ⇨

परंतुकताहीन

परंतुकताहीन 339 38 ⇨

परंतुकहीन

परंतुकताहीन 339 38

परंतुहीन

परंतुकताहीन 339.38

परंतुहीनता

अपरंतुकता 339.12

परंपर

पोता 722 14

परंपरया

पारंपरिकतः 795.17

प्रधानुसारतः 795.18

परंपरा

जातीय ज्ञान 305.10

तारतम्य 1049.3

धर्म 735 1

परंपरा 795.1 ⇨

मर्यादा 808 5

परंपरागत

आनुवंशिक 727 39

पारंपरिक 795.13

प्राचीन 63.6

यथापूर्व 533.13

परंपरागत चित्र

लोक चित्र 404 9

परंपरागतता

आनुवंशिकता 727.17

पारंपरिकता 795 2

प्राचीनता 63.1

परंपरागत वंश

वंश 727.1

परंपरागत विधि

परिपाटी 514.9

परंपरानिष्ठ

परंपरावादी 343 23

परंपरानुकूल

कारंपरिक 795 13

परंपरानुकूलतः

प्रधानुसारतः 795 18

परंपरानुसार

पारंपरिकतः 795 17

परंपरा पर चलना

परंपरा पर चलना 795.12 ⇨

परंपरा पालन करना

परंपरा पर चलना 795 12

परंपरा प्रेमी

परंपरावादी 343 23

परंपरावादी

परंपरावादी 343.23 ⇨

परंपरा से

पारंपरिकतः 795 17

पर

अतिरिक्त 945 4

इतर 945 5

उच्चतः 982 12

उस पार 998 7

किंतु 507.16

पंख 151 1

पंख. एक पर 151.8

पर (संपत्ति) 624.17

पर-

परजनीय 725.7

पर

सीमांतरीय 1001 40

पर (संपत्ति)

पर (संपत्ति) 624.17 ⇨

परई

सकोरा 683.10

परकटा [परकटी]

अक्षमकृत 488.17

पर कतरना

क्षमता हरना 488.9

परकदंब

रविमार्ग. दक्षिण ध्रुव 5.15

परकर्म

पराया व्यवसाय 650.13

पर कलत्र

परस्त्री 806.6

परकक्षना

उदित होना 5.26

परकाज

परोपकार 832.4

परकाजी	परीक्षक 322 15	टॉड 670 14	सस्तर 990 1
परोपकारी 832.12	परगना	मियानी 612 5	परत उतराई
परकार	परगना 34.8 ⇌	परछन	छिलाई 542 4
परकार 956 7 ⇌	परगनादार	आरता 800 4	परत उतापना
परकाल	परगनेदार 991 4	वर स्वागत 800 46	खुरचना 542 15
परकार 956.7	परगनाधीश	परछाई 286 6	परत जमाना
पर काल	परगनेदार 891 4	परछा	सस्तरित करना 990 28
मित्र काल 60 1	परगना हाकिम	अँटोतल 555 26	परतदार
परकाला	परगनेदार 891 4	परछा 562.14 ⇌	तहदार 975 33
धिगारी 106 11	परगनेदार	परछाई 286 6 ⇌	सस्तरित 990 30
चौखट अधोकाष्ठ 609 3	परगहनी	परजन	परतदार मोड़
परकीय	सगलन पात्र सूची 565 17	परजन 725 3 ⇌	तहदार मोड़ 975 18
परजनीय 725 7	साँचा सूची 565 20	परज 706 2	परतबंद
परकीया	परगाछा	परजन भावना 725 4 ⇌	सस्तरित 990 30
रखेली 806 7	परजीवी वनस्पति 111 6	परजन भावनापूर्ण	परतबंदी
परकीया नायिका	विगोत्र 729 14	परजन भावनापूर्ण 725.8 ⇌	सस्तरण 990 2
परकीया नायिका 456.12 ⇌	परगोत्री	परजन समष्टि	परत मैडाई
परकोटा	विगोत्र 729 14	परजन 725 3	प्लोटिंग 292 9
दुर्ग परकोटा 604 14	परगोला	परजनीय	परतल
परकोटा 604.11 ⇌	परवलय 972 3	परजनीय 725 7 ⇌	खरिया 673 19
परकोटा (दे.)	परघना	परजन्म	बोरा 673 18
परिसीमा 1001 8	परिचय बढ़ाना 704 17	अन्य जन्म 248 4	परत लागाना
परकोटा: अड़दब	परीक्षा करना 322 33	पुनर्जन्म 248 7	सस्तरित करना 990 28
परकोटा अड़दब 604.16 ⇌	परधम	परजा	परतला
परकोटा: अस्त्र छिद्र	ध्वजा 408 4	प्रजा 883 6	कथा तलवार पेटी 571 4
परकोटा अस्त्र छिद्र 604 15 ⇌	परधा	परजाता	पदक 857 7
परकोटा: कमर दीवार	कागज़ 415 9	हार सिंगार 13 27	परतली
परकोटा कमर दीवार 604 17 ⇌	खंड 938 1	परजाति	कथा तलवार पेटी 571 4
परक्रामण	दस्तावेज़ 412 19	विजाति 730 2	परता
परक्रामण 658 8 ⇌	परघा 938 28 ⇌	विजातीय	इतरता 945 2
परक्वित्त (अँ)	प्रश्नपत्र 322 16	विजातीय 730 19	दर 947 10
अधि वेतन 643 27	लिखित नोट 412 26	परजीवी	परती
परख	हैंडबिल 442 12	परजीवी वनस्पति 111 6	अनुर्वर (भूमि) 552 17
कला समीक्षा 398 3	परधा देना	परजीवी वनस्पति 111 6 ⇌	ओसाई चादर 548 24
गुणज्ञता 305 15	परीक्षा देना 322 34	परजीवी वनस्पति 111 6 ⇌	परती लेना
परीक्षा 322 11	परधी	परठा	ओसाना 548 41
विकार परीक्षा 171 6	कागज़ 415 9	पतीला 682 13	परत्र
विवेक 301 7	परधा 938 28	परणाम	अन्यत्र 30 9
समीक्षकीय प्रतिमा 398 6	हैंडबिल 442 12	प्रणाम 1060 13	परत्र लोक
परख उज्ञान	परघून	परतंत्र	परलोक 258 12
परख उज्ञान 1081.14 ⇌	आहार पदार्थ 186 1	परतंत्र	परत्य
परखघा	परघून 186 8 ⇌	पराधीन 901 8	इतरता 945 2
धज्जी 938 25	परघून 666 8 ⇌	परतंत्रता	सीमातरता 1001 24
परखघे उज्ञाना	परघून दुकान	पराधीनता 901 1	परथन
विदीर्ण करना 544.13	परघून दुकान 662.9 ⇌	परत:	पलोथन 192 4
परखना	परधून सूची	अस्वत कृतत 505 37	पर दमन
कसौटी पर कसना 566.15	परधून सूची 186.9 ⇌	उपरात 39.16	शत्रुजय 912 5
परीक्षा करना 322 33	परधूनिया	उस के उपरात 39 20	परदा
प्रतीक्षा करना 1057 5	खुदरा व्यापारी 657 5	परघत 995 18	आड़ 605 1
विमर्श करना 330 16	पसारी 663 14	परत	गुप्तता 824 2
समीक्षा करना 398.7	परघूनिया 661.15 ⇌	खुरचा पदार्थ 542 8	घुँघट 591 3
परख विमानन	परघुनी	झिल्ली 990 26	घोड़ा आँख परदा 555 27
परख उज्ञान 1081 14	पंसारी 663.14	तल 985 1	द्वार परदा 605 9
परखा [परखी]	परघूनिया 661.15	तह 975.15	परदा 605.6 ⇌
आज्ञमाया [आज्ञमाई] 524.17	परघुनी	त्वचा झिल्ली 134.2	परदानशीनी 591.1
परीक्षित 322.37	परघुनी	पपड़ी 990.24	प्रालंब सूची 1024.4
परखीया	परघुनी		यवनिका 606 1
कसौटीकार 566.8	टॉड 612.4		

## परदा उठाना

- रहरय 823 /  
वाद्य कुंजी 461 94  
वाद्य परदा 461 99  
सिनेमा परदा 606 4
- परदा उठाना**  
अनावृत करना 822 18  
रहरय खोलना 822 16
- परदा करना**  
परदा करना 591 8 ८
- परदाज़**  
रेखाचित्र 404 17
- परदाज़**  
संबंधक 979 26
- परदाज़**  
हाशिया 1000 12
- परदा डालना**  
छद्म आवरण में होना 824 19
- परदादर**  
रहस्योद्घाटक 822 26
- परदादा**  
परदादा 722 7 ८  
परदा निषिद्ध संबंधी सूची 591 /
- परदादा पिता**  
लकड़ दादा 722 9
- परदादा**  
गोपयिता 824 22  
परदानशीन 591 10
- परदादारी**  
परदानशीनी 591 1
- परदादी**  
परदादी 722 8 ८
- परदा दीवार**  
परदा दीवार 607 5 ८
- परदा न करना**  
परदा न करना 590 15 ८
- परदानशी**  
अतपुर वासिनी 591 11  
परदानशीन 591 10
- परदानशीन**  
अतपुर वासिनी 591 11  
परदानशीन 591 10 ८
- परदानशीनी**  
परदानशीनी 591 1 ८
- परदा निषिद्ध संबंधी**  
परदा निषिद्ध संबंधी 591 6 ८
- परदा निषिद्ध संबंधी सूची**  
परदा निषिद्ध संबंधी सूची 591 7 ८
- परदाफ़ा**  
रहस्योद्घाटन 822 6
- परदा रखना**  
परदा करना 591 8
- परदावा**  
परस्त्री 806 6
- परदा वाद्य**  
धमन वाद्य 481 18
- परदा हटाना**  
दर्शन देना 749 49
- परदुःख कातर**  
दयार्द्र 834 14
- परदुःख कातरता**  
दयालुता 834 4
- परदुःख द्रवण**  
दया द्रवण 834 5
- परदुःख हरण**  
सकट माचन 910 1
- परदुःखहर्ता**  
राकट मोचक 910 10
- परदे के पीछे**  
गुप्तत 824 29
- परदेदार**  
आड़दार 605 16
- परदे में रहना**  
परदा करना 591 8
- परदे वाली**  
परदानशीन 591 10
- परदेश**  
परदेश 34 11 ८  
प्रवास स्थान 618 13  
सीमातर प्रदेश 1001 26
- परदेश आगमन**  
आप्रवासन 618 5
- परदेश वास**  
प्रवासन 618 4
- परदेश वासिता**  
अनावसिता 883 4
- परदेश वासी**  
अनावासी 883 8
- परदेश वासी 34 19 ८**
- परदेशापवाहक**  
उपनिवेशक 881 36
- परदेशी**  
आप्रवारी 618 30  
परदेश वासी 34 19  
परदेशीय 34 18  
सीमांतरीय 1001 40
- परदेशीय**  
परदेशीय 34 18 ८
- परदेस**  
प्रवास स्थान 618 13
- परदेस जाना**  
प्रवास करना 618 19
- परदेसी**  
आप्रवासी 618 30  
परदेश वासी 34 19
- परद्वेषी**  
परद्वेषी 709 9
- परद्वेषी**  
परद्वेषी 709 9 ८
- परधर्म**  
परधर्म 735.8 ८  
पराया व्यवसाय 650 13
- परधर्म ग्रहण**  
धर्म परिवर्तन 742 14
- परधर्मी**  
परधर्मी 735.18 ८
- परधाम**  
मोक्ष लोक 258 10
- परधेयता**  
परधेयता 722 38 ८
- परधेयती**  
परधेयती 722 39 ८
- परन**  
ताल बोल अप्रधान बोल 458 32
- परनाना**  
परनाना 722 32 ८
- परनानी**  
परनानी 722 33 ८
- परनानी: पिता**  
लकड़ नाना 722 34
- परनाम**  
प्रणाम 1060 13
- परनारी**  
परकीया नायिका 456 12  
परस्त्री 806 6
- परनारी को लाना**  
परनारी को लाना 804 22 ८
- परनारी गमन**  
विवाह अनिच्छा 806 1
- परनाला**  
परनाला 23 9 ८
- परनाली**  
नाली 23 12
- पर निंदा द्वारा आत्म प्रशंसा**  
परिजल्प 435 12
- परनिर्भरता**  
परावलंबितता 648 3
- परनी**  
पत्री 283 17
- परपराना**  
पपड़ियाना 990 29
- परपरिणीता**  
ऊड़ा नायिका 456 13
- परपालक पिता**  
परपोषक पिता 720 6
- परपालक माता**  
परपोषक माता 720 7
- परपालन**  
परपालन 720 5 ८
- परपालन करना**  
परपालन करना 720.18 ८
- परपालिका**  
परपोषक माता 720 7
- परपालित**  
परपालित 720.25 ८
- परपालित पुत्र**  
परपोषित पुत्र 720.9
- परपालित पुत्री**  
परपोषित पुत्री 720 10
- परपालित संतान**  
परपोषित संतान 720 8
- परपालिता**  
परपोषक पिता 720 6
- परपिपद (प्र)**  
समातर फलक 977 20
- परपीड़क**  
परपीड़क 391 30 ८
- परपीड़न**  
परपीड़न 391 11 ८
- परपीड़न रति**  
परपीड़न 391 11
- परपीड़ा**  
परव्यथा 391 9
- परपुत्र**  
परपोषित पुत्र 720 9
- परपुत्री**  
परपोषित पुत्री 720 10
- परपुरंजय**  
जयी 912 15  
वीर पुरुष 396 2  
शिव 767 1
- परपुरुष**  
परपुरुष 806 4 ८  
शिष्णु 768 1
- परपुरुष के साथ जाना**  
पति परित्याग करना 804 21
- परपुरुष गमन**  
विवाह अनिच्छा 806 1
- परपुष्ट**  
कोयल 126 21
- परपुष्टा**  
परजीवी वनस्पति 111 6
- परपूठा [परपूठी]**  
सपुष्ट 337 25  
सुगठितकाय 160 13
- परपीडिक्यूलर (अँ)**  
लंब रेखा 968 34
- परपीडिक्यूलर (अँ)**  
प्रतिक्षिप्त 1020 11
- परपीडिक्यूलरिटी (अँ)**  
प्रतिक्षिप्तता 1020 4
- परपोता**  
परपोता 722 16 ८
- परपोती**  
परपोती 722 17 ८
- परपोषक**  
कोआ 126 22
- परपोषक पिता**  
परपोषक पिता 720.6 ८
- परपोषक माता**  
परपोषक माता 720.7 ८
- परपोषण**  
परपालन 720 5
- परपोषण करना**  
परपालन करना 720 18
- परपोषित**  
परपालित 720 25  
स्कंद 773.50
- परपोषित पुत्र**  
परपोषित पुत्र 720.9 ८

परपोषित पुत्री  
परपोषित पुत्री 720 10 ⇨  
परपोषित संतान  
परपोषित सतान 720 8 ⇨  
पर प्रपितामह  
लकड़ दादा 722 9  
पर प्रपितामही  
लकड़ दादी 722 10  
पर प्रपौत्र  
लकड़ पोता 722 18  
पर प्रपौत्री  
लकड़ पोती 722 19  
परफेक्ट बाइंडिंग  
परफेक्ट बाइंडिंग 418 3 ⇨  
परफेक्ट बाइंडिंग (अं)  
परफेक्ट बाइंडिंग 418 3  
परफेक्शननिज्म (अं)  
उत्कृष्टता प्रेम 400 6  
परफेक्शननिस्ट (अं)  
उत्कृष्टता प्रेमी 400 20  
परफोरेशन  
परफोरेशन 271 4 ⇨  
परफोरेशन (अं)  
परफोरेशन 271 4  
परफोर्मिंग आर्ट्स (अं) (बहु)  
मघ कला 397 10  
परफोर्मिस (अं)  
शो 468 5  
परब  
उत्सव 56 1  
परबत  
पर्वत 16 3  
परबस  
पराधीन 901 8  
परबी  
उत्सव उपहार 56 3  
परब्रह्म  
शिव 767 1  
परभाग्योपजीवी  
परावलंबी 648 12  
परम  
अंतिम 995 11  
अत्यधिक 944 7  
ईश्वर 764 1  
उत्तम 313 13  
छोरस्थ 1000 15  
नितांत अंतिम 995.15  
पराकाष्ठात्मक 534 13  
ब्रह्म 764 24  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1  
परमजा  
प्रकृति 762 1  
परम ज्ञान  
अध्यात्म 761 1  
परम ज्ञानी  
महाज्ञानी 305 31

परम तत्व  
ब्रह्म 764.24  
परम पद  
मोक्ष 257 1  
परम पिता  
ईश्वर 764 1  
गौड 764 14  
परम पुरुष  
पुरुष 764 21  
विष्णु 768 1  
परम ब्रह्म  
निगुण ब्रह्म 764 28  
परम भट्टारक  
चक्रवर्ती सम्राट 882 27  
परम भट्टारिका  
राजा प्रधान पत्नी 882 18  
परमर्षि  
महर्षि 789 4  
परमल  
धान सूची 187 12  
परयल 189.25  
परम वीर चक्र  
भास्वीय सेना वीरता चक्रसूची 857 12  
परम शीतांक  
परम शीतांक 103 17 ⇨  
परम शून्य  
परम शीतांक 103 17  
परम सत्ता  
प्रभु सत्ता 899 2  
परम सत्य  
परम सत्य 820 3 ⇨  
परम सीमा  
चरम सीमा 1001 5  
परम हंस  
ईश्वर 764 1  
परमाक्षर  
ओम् 741 19  
परमाणविक  
परमाणविक 78 26 ⇨  
परमाणु  
परमाणु 78.10 ⇨  
परमाणु अस्त्र  
परमाणु अस्त्र 927.15 ⇨  
परमाणु कण  
अवपरमाणु कण 78 11  
परमाणु बम  
आणविक बम 927.16  
परमाणु युग  
आधुनिक काल 78 9  
परमात्ता  
परपोषक माता 720.7  
परमात्म चिंतन  
ज्ञान ध्यान 755.1  
परमात्मा  
ईश्वर 764.1  
विष्णु 768.1  
शिव 767 1

परमात्मा अवतार लेता है  
अयतारवाद 760 12  
परमात्मा पुत्र  
ईसा 791 8  
परमाहृत  
विष्णु 768 1  
परमानंद  
आत्मानंद 382 5  
ईश्वर 764 1  
परमानंद रैज़िडेंट (अं)  
स्थायी वासी 618 33  
परमार्थ  
परम सत्य 820 3  
परहित 712 4  
परोपकार 832 4  
ब्रह्म 764 24  
मोक्ष 257 1  
परमार्थ ज्ञान  
अध्यात्म 761 1  
परमार्थी  
मोक्ष इच्छुक 257 2  
परमाह  
मंगल दिवस 796 4  
परमित (अं)  
अनुमति 337 5  
प्रवेश अनुमति 1094 8  
परमुख  
विमुख 1023 10  
परमुखतः  
विमुखत 1023 16  
परमेश  
सगुण ब्रह्म 764 29  
परमेश्वर  
ईश्वर 764 1  
गौड 764 14  
चक्रवर्ती सम्राट 882.27  
विष्णु 768 1  
शिव 767 1  
सगुण ब्रह्म 764 29  
परमेश्वरी  
दुर्गा 776.7  
परमेश्वरीय  
ईश्वरीय 764 35  
परमेश  
देयता 772 1  
ब्रह्मा 766 1  
परमेशिनी  
देवी 774 49  
सरस्वती 775 8  
परमेशी  
गरुड 777 15  
गुरु 323 1  
गीतम बुद्ध 793.1  
तीर्थकर 792 1  
धर्म शिक्षक 742.21  
ब्रह्मा 766.1  
विष्णु 768.1  
शालग्राम बटी 938.47

शिव 767 1  
परम्युटेशन (अं)  
प्रतिवर्तन 532 9  
परराष्ट्र  
परराष्ट्र 881 3 ⇨  
सीमातर प्रदेश 1001 26  
परराष्ट्र जय  
परराष्ट्र जय 912 4 ⇨  
परराष्ट्र जेता  
परराष्ट्र जेता 912 18 ⇨  
परराष्ट्र वासी  
अनावासी 883 8  
परराष्ट्र विजेता  
परराष्ट्र जेता 912.18  
परराष्ट्रीय  
परराष्ट्रीय 881.30 ⇨  
परलंपार  
उस पार 998 7  
परला [परली]  
उस पार का 998 4  
दूर तटवर्ती 25 32  
सीमांतरीय 1001 40  
परली तरफ  
सीमा के उस पार 1001 46  
परली पार  
उस पार 998 7  
सीमा के उस पार 1001 46  
परले पार  
सीमा के उस पार 1001 46  
परलोक  
परलोक 258 12 ⇨  
परलोक गमन  
मृत्यु 249 1  
परलोक नहीं है  
इहलोकवाद 760 15  
परलोक विषयक विचार पद्धति  
धर्म 735.1  
परलोक सिंधारना  
मरना 249 18  
परलोकार्थ  
लोकार्थ 832 13  
परलोक्रीय  
परलौकिक 258 14  
परलौकिक  
परलौकिक 258 14 ⇨  
परयंश  
परयंश 727 4 ⇨  
परयंशी  
परयंशी 727 31 ⇨  
परयंशीय  
परयंशी 727.31  
परयंश  
पालक पोषक 720.20  
-परयंश  
संवर्धक 979.26  
परयंश  
संवर्धक 979.28

## परतर दिगार

### परवर दिगार

- अल्लाह 764 12  
**परयरीश**  
 पालन पोषण 720 1  
**परवर्ती**  
 उत्तर कालीन 60 13  
**परयल**  
 परयल 189.25 ⇨  
 साग सब्जी सूची 189 4  
**परवल्य**  
 परवल्य 972 3 ⇨  
**परयश**  
 पराधीनता 901 8  
**परवशातः**  
 पराधीनता 901 12  
**परवशाता**  
 पराधीनता 901 1  
**परया**  
 इच्छा 359.1  
 प्रतिपदा 44 7  
 सकोरा 683 10  
**परवाज़**  
 उड्डयन 1030 11  
 एक उड्डान 1030 12  
 नभोत्तरण 1081 18  
 विमान उड्डान 1081 11  
**परवाद**  
 उत्तर पक्ष 324 13  
 प्रतिवाद 324 10  
**परवादी**  
 प्रतिवादी 324 29  
**परवान**  
 मस्तूल 1073 11  
 सीमा 1001 1  
**परवानगी**  
 अध्यादेश 878 5  
 प्रेमासक्ति 368 8  
**परवाना**  
 आज़ा 347.1  
 आज़ापत्र 347 5  
 जावक पत्र 1054.7  
 नियुक्ति पत्र 653 7  
 पार दमन अनुमति 1097 2  
 प्रेमासक्ति 368 21  
 प्रेमी 368.2  
 शलभ 122.42  
**परवानापन**  
 प्रेमासक्ति 368 8  
**परवाना राहदारी**  
 मार्गाधिकार 1063 6  
**परवाह**  
 अनुपेक्षा 184 2  
 धिता 377 2  
**परवाह न करना**  
 उपेक्षा करना 185 5  
**परवाह नहीं**  
 भले ही 507 19

### परव्यथा

- परव्यथा 391.9 ⇨  
**परश**  
 पारस मणि 96 19  
**परशु**  
 कुल्हाड़ी 559 10  
 परशु 924 14 ⇨  
 शस्त्र 922 2  
**परशुधर**  
 गणेश 773 22  
 परशुराम अवतार 769 28  
**परशुधारी**  
 परशुधारी 930.14 ⇨  
**परशुराम**  
 परशुराम अवतार 769 28  
 विष्णु चौबीस अवतार सूची 769.9  
 विष्णु दस अवतार सूची 769 8  
**परशुराम अवतार**  
 परशुराम अवतार 769.28 ⇨  
**परशुरामः पिता**  
 परशुराम पिता 769 29 ⇨  
**परशुरामः माता**  
 परशुराम. माता 769.30 ⇨  
**परशुशत**  
 शताधिक 948 104  
**परसंतान**  
 परपोषित सतान 720 8  
**परस**  
 स्पर्श 269 2  
**परसना**  
 परोसना 183 35  
 स्पर्श करना 269 9  
**परस पखान**  
 पारस मणि 96 19  
**परसर्ग**  
 प्रत्यय 425 19  
**परसा**  
 परशु 924 14  
 परोसा 183 25  
**परसाद**  
 प्रसाद 750 13  
**परसाल**  
 परसाल 42 15 ⇨  
**परसाल से अगला/पिछला वर्ष**  
 तयोरस 42 16  
**परसैट (ऑ)**  
 प्रति शत 947 31  
**परसों**  
 परसों 46 15 ⇨  
**परसों**  
 परसों 46 15  
**परस्त**  
 पूजक 751 3  
**परस्तिश**  
 पूजा 751 1  
**परस्ती**  
 पूजा 751.1

### परस्त्री

- परकीया नायिका 456 12  
 परस्त्री 806 6 ⇨  
**परस्पर**  
 परस्परत 703 12  
 पारस्परिक 703 10  
 सग सग 696.26  
**परस्पर अनिर्वाह**  
 परस्पर अनिर्वाह 703 4 ⇨  
**परस्पर असंगत**  
 सामंजस्यहीन 701.9  
**परस्पर असंगति**  
 असामंजस्य 701 3  
**परस्पर उचित**  
 विनियोज्य 438 7  
**परस्पर उपयुक्तता**  
 सामंजस्य 702 1  
**परस्पर कलह**  
 एकता भग 699.2  
**परस्परतः**  
 परस्परत 703.12 ⇨  
**परस्परता**  
 आदान प्रदान संबध 636 2  
 परस्परता 703.1 ⇨  
 मित्रता 705 1  
 व्यवहार 828 1  
**परस्पर तुलनात्मक**  
 सापेक्षता 309 7  
**परस्पर निर्वाह**  
 परस्पर निर्वाह 702 3 ⇨  
 परस्पर निर्वाह 703.3 ⇨  
**परस्पर निर्वाहक**  
 परस्पर निर्वाहक 702 7 ⇨  
**परस्पर निर्वाह करना**  
 परस्पर निर्वाह करना 702 5 ⇨  
**परस्पर निर्वाह शैली**  
 व्यवहार 828 1  
**परस्पर निर्वाह होना**  
 परस्पर निर्वाह होना 703 8 ⇨  
**परस्पर पृष्ठप्रेषण**  
 परस्पर प्रशंसा 841.2  
**परस्पर प्रशंसा**  
 परस्पर प्रशंसा 841 2 ⇨  
**परस्पर मात्रा**  
 अनुपात 947.9  
**परस्पर युद्ध**  
 द्वंद युद्ध 905.9  
**परस्पर विरोध**  
 संघर्ष 905 1  
**परस्पर विरोधी दिशा में गति**  
 गति प्रतिगति 1035 1  
**परस्पर व्यवहार होना**  
 व्यवहार होना 703.7  
**परस्पर सहमत**  
 सहमत 337.19  
**परस्पर स्थान परिवर्तन**  
 प्रतिस्थापना 1036 8

### परस्पर हस्तांतरण

- विनिमय 836 3  
**परस्पर्याय**  
 परस्पर्यायवाची 426 39  
**परस्पर्यायता**  
 परस्पर्यायता 426.24 ⇨  
**परस्पर्यायवाची**  
 परस्पर्यायवाची 426.39 ⇨  
**परस्य**  
 पर (संपत्ति) 824.17  
 पूजनीय 725.7  
**परस्य**  
 परजनीय 725.7  
**परसू शत**  
 शताधिक 948 104  
**परहित**  
 परहित 712 4 ⇨  
 परोपकार 832 4  
**परहितार्थ**  
 लोकार्थ 832 13  
**परहेज़**  
 मद्यत्याग 209 27  
 संयम 808 8  
**परहेज़ः खाना**  
 पध्याहार 182.7  
**परहेज़दार**  
 संयमी 808.17  
**परहेज़ न बरतना**  
 संयम न बरतना 809 5  
**परहेज़ निबाहना**  
 संयम पालना 808 11  
**परहेज़ बरतना**  
 संयम पालना 808.11  
**परहेज़ रखना**  
 संयम पालना 808 11  
**परहेज़ी**  
 संयमी 808.17  
**परौठा**  
 परौठा 202.25 ⇨  
**परौठा**  
 शिव 767 1  
**परौठा**  
 चुटीलना 223.10  
**परा-**  
 अभिमुख 1023.9  
**परा**  
 अर्थ महाकल्प 40.8  
 उत्सम 313 13  
 ओम् 741 19  
 शब्द ब्रह्म 764.30  
**पराई**  
 परस्त्री 808.6  
**पराई औरत**  
 परस्त्री 808.6  
**पराई जाति**  
 विजाति 730.2  
**पराई पीर**  
 परव्यथा 391.9



पराए  
परजन 725.3  
पराए लोग  
परजन 725.3  
पराकरण  
निवारण 920.4  
पराकाष्ठा  
अंतिम अवस्था 995.3  
क्लाईमैक्स 463.29  
खमध्य 2.5  
पराकाष्ठा 534.3 ⇨  
पराकाष्ठा (दे.)  
उत्कर्ष सीमा 1001.6  
घरम सीमा 1001.5  
पराकाष्ठात्मक  
पराकाष्ठात्मक 534.13 ⇨  
पराकाष्ठा पर  
पराकाष्ठा पर 534.16 ⇨  
पराकाष्ठापूर्ण  
पराकाष्ठात्मक 534.13  
पराकोटि  
अंतिम अवस्था 995.3  
उत्कर्ष सीमा 1001.6  
क्लाईमैक्स 463.29  
खमध्य 2.5  
घरम सीमा 1001.5  
पराकोटीय  
खमध्यिय 2.10  
पराक्रम  
परिश्रम 493.1  
प्रताप 849.5  
वीरता 396.1  
पराक्रमी  
परिश्रमी 493.9  
वीर 396.6  
पराक्रमीय  
वीरता विषयक 396.5  
पराक्रांत  
आक्रांत 914.18  
पराजित 913.5  
पराग  
धूलि 100.4  
पराग 115.12 ⇨  
रज 130.9  
पराग आना  
पराग आना 118.10 ⇨  
परागण  
परागण 118.4 ⇨  
परागण होना  
पराग आना 118.10  
परा गति  
परास्वन गति 1042.6  
पराङ्मुख  
अनासक्त 366.5  
विमुख 1023.10  
विरोधी 886.7  
पराङ्मुखतः  
विमुखतः 1023.16

पराधीन  
दूर तटवर्ती 25.32  
विमुख 1023.10  
पराधीनताः  
विमुखतः 1023.16  
पराजय  
पराजय 913.1 ⇨  
पराजय स्वीकरण  
युद्ध समर्पण 916.9  
पराजित  
पराजित 913.5 ⇨  
पराजित करना  
जीतना 912.12  
पराजित कर्ता  
जयी 912.15  
पराजित न होना  
पराजित न होना 913.4 ⇨  
पराजित होना  
पराजित होना 913.3 ⇨  
पराजेय  
जेय 518.20  
पराजेयता  
जेयता 518.8  
परात  
द्रे 685.10  
तसला 685.9  
परात 685.8 ⇨  
परात्पर  
ईश्वर 764.1  
उच्चतम 982.8  
सीमांतरीय 1001.40  
पराधीन  
पराधीन 901.8 ⇨  
पराधीनताः  
पराधीनत 901.12 ⇨  
पराधीनता  
पराधीनता 901.1 ⇨  
पराधीन होना  
पराधीन होना 901.4 ⇨  
पराध्वनि  
पराध्वनि 294.3 ⇨  
पराग  
प्राण तत्त्व 245.1  
पराश्रमिणी  
परावलंबी 648.12  
पराश्रम  
गहन प्रभाव 511.6  
पराजय 913.1  
पराभूत  
गहन प्रभावित 511.15  
पराजित 913.5  
पराभूत करना  
गहन प्रभाव छोड़ना 511.12  
जीतना 912.12  
पराभूत कर्ता  
गहन प्रभावी 511.19  
पराभूति  
गहन प्रभाव 511.6

पराजय 913.1  
पराग  
बच्चा गाड़ी 1071.26  
पराभर्षा  
उपदेश 430.9  
पराभर्षा 332.1 ⇨  
सीख 332.6  
पराभर्षा (दे.)  
परिघर्षा 436.3  
पराभर्षक  
धिकिर्त्सीय विशेषज्ञ 173.2  
पराभर्षक 332.14 ⇨  
पराभर्षाकुशल  
पराभर्षाकुशल 332.15 ⇨  
पराभर्षा दाता  
पराभर्षक 332.14  
पराभर्षा देना  
पराभर्षा देना 332.10 ⇨  
पराभर्षा पुस्तिका  
निर्देश पुस्तक 446.21  
पराभृष्टा  
पराभर्षक 332.14  
पराध्वण  
आसक्त 365.5  
ध्यानमग्न 331.11  
निष्ठावान 826.9  
प्रवृत्तिशील 502.9  
ब्रह्मलीन 755.10  
पराध्वणता  
अनुरक्ति भाव 752.11  
तत्त्वलीनता 331.6  
निष्ठा निर्वाह 826.2  
ब्रह्मलीनता 755.6  
समाधिस्थता 755.4  
पराधा [पराध] ]  
दूतर 945.5  
पर (सपत्ति) 624.17  
परजन भावनापूर्ण 725.8  
पराधा देश  
परदेश 34.11  
सीमातर प्रदेश 1001.26  
पराधा धंधा  
पराधा व्यवसाय 650.13  
पराधा पक्ष  
विरोध पक्ष 886.3  
पराधापन  
अघनिष्ठता 697.6  
इतरता 945.2  
परजन भावना 725.4  
पराधा मर्द  
परपुरुष 806.4  
पराधा बंध  
परवश 727.4  
पराधा व्यवसाय  
पराधा व्यवसाय 650.13 ⇨  
पराध साल  
परसाल 42.15

पराध  
दानार्थ 641.22  
परहित 712.4  
परोपकार 832.4  
लोकार्थ 832.13  
पराध  
अर्थ महाकल्प 40.8  
पराधर  
अग्र परच 994.15  
आरंभिक अंतिम 994.14  
पराधर्त  
परिक्रमा 1033.3  
पराधर्तन  
प्रकाश पराधर्तन 288.6  
प्रतिप्रदान 638.3  
पराधर्तित (प्रकाश)  
पराधर्तित (प्रकाश) 288.12 ⇨  
पराधर्तितता  
पराधर्तितता 648.3 ⇨  
पराधर्तनी  
पराधर्तनी 648.12 ⇨  
पराधर्तनी होना  
पराधर्तनी होना 648.7 ⇨  
पराधर्तु  
गंधर्व सूची 778.5  
पराधर्त  
वायु सूची 85.2  
पराधर्तिया  
अध्यात्म 761.1  
पराधर्त  
पराधर्तित (प्रकाश) 288.12  
प्रतिप्रदत्त 638.16  
दिनिमीत 636.7  
पराधर्तित  
परिक्रमा 1033.3  
पुनराधर्तित 73.1  
सिंहावलोकन 330.10  
पराधर्तित  
पराधर्तित 776.21 ⇨  
ललिता देवी 774.80  
पराधर्त  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
शिव 767.1  
पराधर्त पुत्र वेद व्यासः माता  
सत्यवती 771.95  
पराधर्तरी  
बौद्ध भिक्षु 790.27  
पराधर्तरी  
पराधर्तनी 648.12  
पराधर्तित  
शरणागत 910.12  
पराधर्तितता  
पराधर्तितता 648.3  
पराध  
रौंगा 94.13  
पराधस्त  
अपारित 329.28  
दमित 911.14

## परास्वन गति

पराजित 913 5  
 परास्वन गति  
 परास्वन गति 1042.6 ⇌  
 पराहत  
 युद्ध पलायित 916 23  
 पराहति  
 निरसन 338 9  
 पराहन  
 अपराहन 47 11  
 परिंदा  
 पक्षी 126 1  
 परिकम्पा  
 तीर्थ परिक्रमा 1089.4  
 परिक्रमा 1033.3  
 परिकर  
 कथा सूचना 486.15  
 कर्मचारी समूह 652.28  
 दलबल 891 2  
 परिवार 726 1  
 पूर्व सूचना 441.5  
 परिकर्म  
 गणित कर्म 953 2  
 परिकलन 953.9  
 शरीर चर्मा 225.1  
 परिकर्मी  
 अधीनस्थ कर्मचारी 652.33  
 परिकर्ष  
 विस्थापना 1036.2  
 परिकर्षण  
 ऊर्ध्व कर्षण 1062 13  
 परिकर्षित  
 ऊर्ध्व कर्षित 1062 36  
 परिकलन  
 परिकलन 953.9 ⇌  
 परिकलन कर्म  
 परिकलन 953 9  
 परिकलन पदटी  
 स्लाइड रूल 950 17  
 परिकलन यंत्र  
 गणित्र 950.13  
 परिकल्पित  
 अनुमानित 308.20  
 आकल्पित 947.21  
 परिकल्पित्र  
 गणित्र 950.13  
 परिकल्प  
 परिकल्प 520.6 ⇌  
 परिकल्पना 520 5  
 परिकल्पक  
 परिकल्पक 520 19 ⇌  
 परिकल्पन  
 निर्माण आयोजन 599.14  
 परिकल्पना  
 आरंभिक अवस्था सूची 994.23  
 आधिकार 307 5  
 निर्माण परिकल्पना 599.15  
 परिकल्पना 520.5 ⇌

परिकल्पना प्रदर्शन  
 परिकल्प प्रदर्शन 520.7  
 परिकल्प प्रदर्शन  
 परिकल्प प्रदर्शन 520.7 ⇌  
 परिकल्पित  
 परिकल्पित 520.18 ⇌  
 परिकांक्षी  
 भक्त 790 6  
 परिकीर्तित  
 बहुचर्चित 436 10  
 परिक्रमण  
 परिधि चक्रण 1033 2  
 पृथ्वी परिक्रमण 5.3  
 परिक्रमणशील  
 परिक्रमणशील 1033 20 ⇌  
 परिक्रमा  
 अनुघटी परिक्रमा 1033.5  
 तीर्थ परिक्रमा 1089.4  
 परिक्रमा 1033.3 ⇌  
 परिक्रमा मार्ग 1083 25  
 परिधि 972.4  
 पृथ्वी परिक्रमण 5.3  
 षोडशोपचार सूची 750.4  
 परिक्रमा (दे. तीर्थ परिक्रमा)  
 परिक्रमा पथ 1033 4  
 परिक्रमा करना  
 परिक्रमा करना 1033.15 ⇌  
 परिक्रमा काल  
 परिक्रमा काल 5 4 ⇌  
 परिक्रमा पथ  
 परिक्रमा पथ 1033 4 ⇌  
 परिक्रमा मार्ग 1083 25  
 पिंडकक्षा 4.1  
 परिक्रमा मार्ग  
 परिक्रमा मार्ग 1063.25 ⇌  
 परिक्रमायण  
 परिक्रामण 1033.11  
 परिक्रय  
 भाड़ा क्रय 660 7  
 परिक्रांत  
 पराजित 913.5  
 परिक्रामण  
 परिक्रामण 1033.11 ⇌  
 परिक्रामी  
 चक्रवृत्तिशील 71 12  
 परिक्रान्त  
 बहुत थका 492.16  
 परिक्षेत्र  
 परिक्षेत्र 34.3 ⇌  
 परिसर 604.1  
 परिक्षेप  
 छितराय 668.8  
 परिक्षा  
 खेत सीमा 551.21  
 परिक्षा 604.20 ⇌  
 सुरंग 1085.1  
 परिक्षात  
 परिक्षा 604 20

लीक 1083.16  
 परिगंतव्य  
 गंतव्य 1100.1  
 परिगणक  
 जपमाला. बड़ा दाना 749.8  
 परिगणक 950.20 ⇌  
 परिगणन  
 गणना कर्म 950.11  
 परिगणना  
 गणना 950.1  
 परिगणित  
 गिना [गिनी] 950 12  
 परिगणित्र  
 गणित्र 950.13  
 परिगत  
 घेराबंद 914.23  
 परिगर्हा  
 परिगर्हा 870 4 ⇌  
 परिगमित  
 द्रवित 80 6  
 परिगीत  
 बहुचर्चित 436.10  
 परिगृहीत  
 अंगीकृत 1002.23  
 परिग्रह  
 कुटुंब 726.7  
 परिग्रह वृत्ति 359 9  
 संघय 645.3  
 परिग्रहण  
 संग्रहण 669.1  
 परिग्रह वृत्ति  
 परिग्रह वृत्ति 359.9 ⇌  
 परिग्रही  
 परिग्रही 359.33 ⇌  
 संघयी 645 10  
 परिघ  
 डंडा 923.5  
 फाटक 608 9  
 बारेज 22.3  
 भाला 925 4  
 गीशा सुराही 679 17  
 परिघट्टना  
 नेपथ्य पूर्वसंग सूची 468.18  
 परिघात  
 हत्या 251.5  
 परिघोष  
 सबल कथन 430.2  
 परिघक्र  
 नेमि 1077.8  
 परिधि 972.4  
 बाहरी घेरा 972.7  
 परिघक्रण  
 परिधि चक्रण 1033.2  
 परिघक्रायण  
 परिक्रामण 1033.11  
 परिघय  
 अभ्युदेश 437.5  
 परिघय 315.1 ⇌

परिधितता 704 1  
 परिभाषा 317 1  
 परिचय कराना  
 परिधित कराना 704.16  
 परिचय कराने वाला  
 परिचय संस्थापक 704.21  
 परिचय विद्वान्  
 पदक 857.7  
 परिचयन  
 एकत्रण 667.1  
 संग्रहण 669.1  
 परिचय पत्र  
 परिचय पत्र 704.4 ⇌  
 परिचय पुस्तक  
 व्यक्तिकोश 446.11  
 परिचय बहाना  
 परिचय बहाना 704.17 ⇌  
 परिचय मात्र  
 अल्प परिधितता 704.10  
 परिचय संस्थापक  
 परिचय संस्थापक 704.21 ⇌  
 परिचय स्थापना  
 परिचय स्थापना 704.3 ⇌  
 परिचय स्थापना पत्र  
 परिचय स्थापना पत्र 704.6 ⇌  
 परिचय स्थापित कराना  
 परिधित कराना 704.16  
 परिचयहीन  
 अपरिधित 697.16  
 परिचयहीनता  
 अपरिधितता 697.5  
 परिचय होना  
 परिधित होना 704.15  
 परिघर  
 अंगरक्षक 908.21  
 कर्मचारी समूह 652.28  
 सहकर्मी 700.22  
 परिघरित  
 परिधयित 651.27  
 परिघर्षा  
 गोष्ठी 694 4  
 परिघर्षा 436.3 ⇌  
 विघार गोष्ठी 694.7  
 विवेचना 427.13  
 परिघर्षा कर्ता  
 परिघर्षा कर्ता 436.11 ⇌  
 परिघर्षा  
 परिघर्षा 651.6 ⇌  
 सत्कार 184.1  
 परिधयित  
 परिधयित 651.27 ⇌  
 परिधाय  
 परिचय स्थापना 704.3  
 परिधायक  
 अभ्युदेशक 437.12  
 परिचय संस्थापक 704.21  
 संज्ञापक 441.20

परिचायन  
परिचय स्थापना 704.3  
परिचायिका  
व्यक्तिकोश 446.11  
हुज्रू 993.15  
परिचायित  
अभ्युदशित 437.11  
परिचायित 704.20 ⇌  
परिचार  
विचरण मार्ग 1063.17  
परिचारक  
परिचारक 651.28 ⇌  
परिचारक [परिचारिका]  
स्टीवार्ड 1080.24  
परिचारिका  
परिचारिका 651.29 ⇌  
विमान परिचारिका 1081.5  
परिचालक  
चालक 1046.24  
संचल कर्ता 1037.21  
संचालक 655.16  
परिचालन  
संचालन 655.1  
संचालन 1037.5  
परिचालन गृह  
परिचालन गृह 1073.30 ⇌  
परिचालित  
चालित 1046.23  
परिचितन  
विमर्शन 330.12  
परिचित  
अभ्यस्त 303.19  
ख्यात 847.3  
परिचायित 704.20  
परिचित 704.19 ⇌  
परिचित कराना  
परिचित कराना 704.16 ⇌  
परिचितता  
परिचितता 704.1 ⇌  
परिचित होना  
परिचित होना 704.15 ⇌  
परिचिह्न  
हस्ताक्षर 444.8  
परिच्छद  
आच्छाद 593.1  
छेदक 116.6  
दलबल 691.2  
धितान 600.16  
परिच्छन्न  
दलबल सहित 691.8  
परिच्छिन्ति  
संभागीकरण 937.2  
सीमा माप 958.15  
परिच्छेद  
अध्याय 447.2  
मात्रा 946.3  
सीमा 1001.1

परिच्छेदक  
परिभाषक 317.16  
विभाजक 699.18  
परिच्छेदन  
संभागीकरण 937.2  
परिच्छेद्य  
परिभाष्य 317.19  
परिष्कृत  
पतित 1031.24  
परिजन  
कर्मचारी समूह 652.28  
दलबल 691.2  
सहकर्मी 700.22  
स्वजन 725.1  
परिजल्प  
परिजल्प 435.12 ⇌  
परिजल्पन  
निदन 843.2  
परिजात  
पूर्ण विकसित 534.15  
परिजेय  
जेय 518.20  
परिज्ञात  
परिज्ञात 305.32 ⇌  
परिज्ञात करना  
परिज्ञात करना 305.25 ⇌  
परिज्ञाता  
परिज्ञाता 305.33 ⇌  
परिज्ञान  
परिज्ञान 305.13 ⇌  
सूचना 441.1  
परिज्ञानी  
परिज्ञाता 305.33  
परिणत  
परिवर्तित 532.16  
परिणति  
अंत 995.1  
कार्य समाप्ति 522.1  
नाटक फलागम 466.16  
पक्व 195.41  
परिणाम प्राप्ति 510.2  
परिवर्तन 532.1  
रस परिपाक 455.7  
परिणद्ध  
जुता [जुती] 1079.21  
परिणमन  
रूपान्तरण 397.31  
परिणय  
विवाह 799.1  
सप्तपदी 800.24  
परिणयन  
आनयन 1053.1  
विवाहन 799.6  
सप्तपदी 800.24  
परिणाम  
उत्तर 334.1  
उपपत्ति 328.1  
कथा फल 466.12

कर्मफल 504.10  
गणित फल 953.3  
परिणाम 510.1 ⇌  
परीक्षा फल 322.23  
प्रतिफल 510.3  
समाधान 334.6  
परिणामतः  
परिणामतः 510.15 ⇌  
परिणामतः प्राप्त  
परिणामतः प्राप्त 510.11 ⇌  
परिणाम बर्षी  
दूरदर्शी 301.35  
परिणामन  
अध्याहरण 325.10  
परिणाम निकलना  
परिणाम होना 510.6  
परिणाम निकालना  
सम्प्रधान करना 334.10  
परिणाम प्राप्ति  
परिणाम प्राप्ति 510.2 ⇌  
परिणामयुक्त  
परिणामयुक्त 510.10 ⇌  
परिणाम साधन  
कर्म 504.1  
परिणाम स्वरूप  
परिणामतः 510.15  
परिणाम होना  
परिणाम होना 510.6 ⇌  
परिणामानुसार  
परिणामतः 510.15  
परिणीत  
आनीत 1053.10  
विवाहित 799.64  
परिणीता  
पत्नी 803.6  
विवाहिता 799.65  
परिणोता  
विवाह कर्ता 799.60  
परिणोया  
वधू 801.11  
परितप्त  
तप्तः 104.22  
परितप्तता  
तप्तता 104.3  
परितर्कण  
विमर्शन 330.12  
परिताप  
कड़ी गरमी 53.8  
परितुष्ट  
तृप्त 361.16  
परितृप्त  
तृप्त 361.16  
परितोष  
प्रसन्नता 381.1  
संतोष 360.5  
परितोषक  
संतोषप्रद 360.20

परितोष नीति  
गुप्तीकरण नीति 374.8  
परित्यक्त  
परित्यक्त 804.26 ⇌  
परित्यक्त 1003.4 ⇌  
रहीकृत 526.17  
परित्यक्त [परित्यक्ता]  
जाति निर्वासित 870.28  
तलाक़शुदा 804.27  
परित्यक्त 1003.4  
परित्यक्त 804.26  
परित्यक्त अंश  
अवशिष्ट अंश 939.7  
परित्यक्त करना  
परित्याग करना 1003.3  
परित्यक्त पत्नी  
परित्यक्त पत्नी 804.5 ⇌  
परित्यक्त होना  
परित्यक्त होना 1003.2 ⇌  
परित्यक्ता  
परित्यक्त पत्नी 804.5  
परित्याग  
परित्याग 1003.1 ⇌  
स्वत्व परित्याग 622.18  
परित्याग (दे.)  
आदान मुक्ति 639.6  
परित्याग करना  
परित्याग करना 1003.3 ⇌  
परित्यागी  
परित्यागी 1003.6 ⇌  
बहिष्कारक 870.30  
भोग त्यागी 364.12  
परित्याग्य  
परित्याग्य 1003.5 ⇌  
परित्राण  
आमोघन 1015.2  
भय नाश 394.8  
सकट मोघन 910.1  
परित्राण करना  
सकट दूर करना 910.6  
परित्राण पलायन  
त्राण पलायन 916.3  
परित्राणित  
सकटमुक्त 910.9  
परित्रात  
सकटमुक्त 910.9  
परित्राता  
जीवन रक्षक 908.23  
भय नाशक 394.17  
संरक्षक 908.26  
परिदग्ध  
दग्ध 108.13  
परिदर्शन  
सूक्ष्म निरीक्षण 284.18  
परिदर्शी  
पैरिस्कोप 283.8  
परिदर्शा  
परिस्थिति 69.5

## परिदहन

### परिदहन

मुलस 167 7  
दहन 108.1

परिदान  
बंधक वापसी 633 22

परिदीन  
मनोव्यथित 391.26

परिदेय  
अधि वेतन 643 27

परिधान  
परिधान 583.1 ⇌  
परिधान उतारना 590.14  
शरीर 139 1

परिधान उतारना  
परिधान उतारना 590 14 ⇌

परिधान कक्ष  
परिधान कक्ष 589.3 ⇌

परिधान काट  
परिधान काट 577 4 ⇌

परिधान चर्च  
फ़र 582 17

परिधान त्याग  
अपरिधानन 590 11

परिधान धारण  
परिधानन 589 2

परिधान धारी  
वेशधारी 589 26

परिधानन  
परिधानन 589.2 ⇌

परिधान पहनना  
पहनना 589 22

परिधान शैली  
वेश 589 1

परिधान संवृक्त  
परिधान संवृक्त 676.17 ⇌

परिधान समुदाय  
परिधान समुदाय 583 16 ⇌

परिधान सामग्री  
परिधान सामग्री 583.2 ⇌

परिधान हरण  
नग्नकरण 590 2

परिधानहीन  
नग्न 590 16

परिधानहीनता  
नग्नता 590 1

परिधानित  
वेशित 589 25

परिधानित होना  
पहनना 589 22

परिधायक  
बाहरी घेरा 972 7

परिधावक  
दोडाक 484 15

परिधि  
घेरा 604 7  
नेभि 1077 8

परिक्रमा पथ 1033 4  
परिधि 972 4 ⇌

बाड़ 604.10  
सीमा 1001.1

परिधि: अंतर्गत स्थान  
परिधि: अंतर्गत स्थान 972.5 ⇌

परिधि: अंश  
घाप 972 9

परिधि क्षेत्र  
परिसर 604 1

परिधि चक्रण  
परिधि चक्रण 1033.2 ⇌

परिधित  
घिरा [घिरी] 604 23

परिधि माप  
परिधि माप 958.14 ⇌

परिधि में लेना  
घेरना 604.22

परिधियुक्त  
परिसीमित 1001.35

परिधि स्पर्शक रेखा  
स्पर्श रेखा 968 26

परिधीय  
परिधीय 972 16 ⇌

परिधूसर  
धूलिमय 100 24

परिनिंदन  
तृप्ति प्रदान 361.6

परिनयन  
वहन 1061 1

परिनिर्वाण  
मोक्ष 257 1

परिपंथक  
बटमार 864 34

परिपंथी  
शत्रु 706 2

परिपक्व  
अभ्यस्त 303 19  
जर्जर वृद्ध 232 12

पक्व 195 77  
प्रौढ़धी 301 25

परिपक्व अवस्था  
जर्जर वृद्धता 232.6

परिपक्वता  
काव्य पाक 453 10

परिपक्वन  
पक्वन 195 41

परिपक्व होना  
पकना 195 57

परिपठन  
पूर्ण पठन 321 29

परिपणित  
वचन दत्त 339 40

परिपणितार्थ संधि  
सहमति पत्र 339 7

परिपत्र  
संकुलर 442.10

परिपथ  
परिक्रमा मार्ग 1063 25  
पिडकक्षा 4 1

रिंग रोड 1063.38  
विद्युत सर्किट 102 5

परिपथ भंग  
शॉर्ट सर्किट 102 6

परिपांशु  
अति श्वेत 289.67

परिपाक  
परिणाम 510.1  
रस परिपाक 455.7

परिपाचक  
रसोईदार 195 7

परिपाचन  
परिपाचन 195.19 ⇌

परिपाधिका  
रसोईदारिन 195.8

परिपाधित  
परिपाधित 195 65 ⇌

परिपाधित करना  
परिपाधित करना 195 50 ⇌

परिपाटी  
परिपाटी 514.9 ⇌

परिपाटी अनुकुल  
परिपाटी अनुकुल 514.18 ⇌

परिपाटी होना  
परिपाटी होना 514.12 ⇌

परिपार्थ  
पक्षोस 31 3  
बैकग्राउंड 404 22

परिपार्थ चर  
पार्थचर 696 18

परिपालक  
पालक पोषक 720 20

परिपालन  
पालन पोषण 720 1

परिपालन करना  
पालन पोषण करना 720 17

परिपालित [परिपालिता]  
पालित पोषित 720.19

परिपीडन  
उत्पीडन 391.10

परिपुष्ट  
बलिष्ठ 160.10

परिपूरण  
भराई 1004 1

परिपूर्ण  
असक्षिप्त 978 7  
आद्योपात 940 14

परिपूर्ण 313.14 ⇌  
पूर्ण रचित 527 16

पूर्णांशिक 940.13  
भरा [भरी] 1004.12

समाप्त (कार्य) 522.4  
सर्व 940.8

सहित 1006.2

परिपूर्णता  
असक्षिप्तता 978.3

परिपूर्णता 313.5 ⇌  
पूर्णांशता 940.5

समृद्धि 626.1

परिपूर्ति  
आपूर्ति 634.14

परिपृच्छ  
पृच्छा 333.2

परिपृच्छक  
प्रश्न कर्ता 333 24

परिपृच्छा  
जनमत संग्रह 888.22

पृच्छा 333.2  
परिपृच्छ

बैकग्राउंड 404.22

परिपोषक  
पालक पोषक 720.20  
पौष्टिक 179.22

परिपोषण  
पालन पोषण 720.1

पोषण 179 1

परिपोषण करना  
पालन पोषण करना 720.17

परिपोषित [परिपोषिता]  
पालित पोषित 720 19

परिप्रश्न  
पृच्छा 333 2

परिप्रेक्ष्य  
पर्सपेक्टिव 404 19

परिप्रेषण  
निष्कासन 1092 10

परिप्लव  
अस्थिर 1037 22  
जलयान 1072 1

तरणशील 483 27  
बाड़ 22 1

परिप्लवन  
तरण 483.20

परिप्लुत  
अति आर्द्र 88.28

परिबर्ह  
साज़ सामान 558.6

परिभक्षण  
पूर्ण भक्षण 181.11

परिभावन  
विचारण 330.5

परिभाषक  
परिभाषक 317.16 ⇌

परिभाषण  
परिभाषण 317.2 ⇌

व्याख्यायन 427.16

परिभाषा  
परिभाषा 317.1 ⇌

परिभाषा करना  
परिभाषा करना 317.12 ⇌

परिभाषा कर्ता  
परिभाषक 317.16

परिभाषातीत  
अपरिभाष्य 317.20

परिभाषातीतता  
अपरिभाष्यता 317.4

परिभाषाहीनता  
अपरिभाषा 317.3  
परिभाषित  
परिभाषित 317.17 ⇨  
स्पष्ट 822.20  
परिभाषित आकृति  
ज्यामितीय आकृति 969.1  
परिभाषित करना  
परिभाषा करना 317.12  
लक्षण बताना 317.14  
परिभाषितता  
स्पष्टता 822.1  
परिभाष्य  
परिभाष्य 317.19 ⇨  
परिभू  
गहन प्रभावी 511.19  
व्यापक 981.12  
परिभूमि  
परिक्षेत्र 34.3  
पार्श्व भूमि 997.4  
परिभूषण  
अलंकरण 227.1  
परिभोक्ता  
कला उपभोक्ता 399.2  
परिभोग  
भोग 363.1  
परिभोगन  
उपभोगन 524.2  
परिभ्रम  
चक्रावृत्ति 71.4  
परिक्रमा 1033.3  
मूल 498.3  
परिभ्रमण  
घुरी चक्रण 1033.1  
परिधि चक्रण 1033.2  
पर्यटन 1090.6  
परिभ्रमणशील  
पर्यटनशील 1090.45  
परिभ्रामण  
परिक्रामण 1033.11  
परिभंडल  
गोल पिंड 977.1  
तेजोमंडल 839.7  
परिधि 972.4  
पिंड 976.1  
बाहरी घेरा 972.7  
शाशिचक्र 4.4  
परिभंडार  
अति भंद 1045.12  
परिभंड  
अति भंद 1045.12  
अल्प 942.16  
परिभर  
मारण 758.18  
परिभर्दन  
पददलन 911.5  
परिभर्षा  
परामर्श 332.1

परिमर्भ  
ईर्ष्या 709.1  
परिमल  
घब्बा 217.2  
विद्वन्मंडली 319.5  
सुगंध 273.4  
परिमलित  
सुगंधित 274.31  
परिभा  
नेमि 1077.8  
परिमाण  
आंतरिक स्थान 33.5  
आकलन 947.5  
आकार माप 961.1  
आयतन 966.3  
भार माप 962.1  
मात्रा 946.3  
माप 958.1  
मापन 958.2  
संख्या 948.1  
परिमाण आकलन  
आकलन कर्म 947.6  
परिमाणन  
मापन 958.2  
परिमाणित  
मापित 958.57  
परिमाता  
तोलने वाला 962.66  
मापक 958.58  
परिमाप  
आकलन 947.5  
माप 958.1  
लक्षण 317.5  
परिमापक  
मापक 958.58  
परिमापन  
आकलन कर्म 947.6  
क्षेत्र मापन 959.33  
मापन 958.2  
परिमापित  
मापित 958.57  
परिमापी  
मापी 958.3  
परिमार्ग  
रिंग रोड 1063.38  
परिमार्जक  
मार्जक 218.39  
परिमार्जन  
उप संपादन 445.12  
परिष्करण 537.2  
मार्जन 218.8  
परिमार्जित  
परिष्कृत 537.9  
मार्जित 218.38  
परिमित  
अल्प 942.13  
मापित 958.57  
ससीम 1001.33

परिमिता  
इतनापन 946.2  
संकीर्णता 980.11  
ससंख्यता 942.8  
ससीमता 1001.2  
परिमितायु  
अल्पायु 229.18  
परिमिताहार  
डायटिंग 182.6  
परिमिताहारी  
अल्पाहारी 182.16  
परिमिति  
आंतरिक स्थान 33.5  
इतनापन 946.2  
मापन 958.2  
सीमा माप 958.15  
परिमूढ़  
भ्रमित 342.10  
परिमूल्य  
लागत 644.7  
परिमृत्यु  
पूर्ण मृत्यु 249.4  
परिमेय  
ससीम 1001.33  
परिमोक्ष  
संकट मोचन 910.1  
परिमोक्षण  
उन्मोचन 1015.1  
परिम्लानन  
म्लानन 120.3  
परिया  
कम नस्ल का 243.19  
लावारिस (जानवर) 127.97  
परियोजना  
निर्माण परिकल्पना 599.15  
परिरंजित  
प्रभावित 511.13  
परिरंभ  
आलिंगन 237.8  
परिरंभक [परिरंभिका]  
आलिंगन कर्ता 237.18  
परिरक्षण  
दुर्गाकरण 907.12  
पहरेदारी 908.8  
रोधन 920.5  
संकट मोचन 910.1  
परिरक्षा  
रखरखाव 538.4  
संरक्षा 908.3  
परिरक्षिता  
अभिपिता 720.12  
संरक्षक 908.26  
परिरक्षी  
संरक्षक 908.26  
परिरक्ष्या  
रथ मार्ग 1063.13  
सड़क 1063.33

परिरेखा  
बाह्य रेखा 968.11  
परिलंघन  
लंघन 1097.7  
परिलाभ  
अधि वेतन 643.27  
परिलेख  
आकार चित्र 404.11  
रेखाचित्र 404.17  
वर्णन साहित्य 449.3  
परिलोप  
अनुपलब्धता 942.4  
परिवत्सर  
कालचक्र अरे 36.4  
वर्ष 42.8  
परिवत्सरीय  
ऋतु कालातीत 51.18  
वर्षीय 42.27  
परिवचन  
केश कर्तन 224.3  
परिवर्जनीय  
परिस्थाप्य 1003.5  
परिवर्त  
गश्त 1083.16  
परिक्रमा 1033.3  
पुनरावृत्ति 73.1  
युगांत 40.3  
परिवर्तक  
क्रांतिपूर्ण 903.19  
परिवर्तनकारी 532.18  
विनिमय कर्ता 636.8  
परिवर्तकाः (त्र)  
अमीबाणु 122.3  
परिवर्तन  
उपांतरण 338.8  
नवीकरण 64.6  
नवीनता 64.3  
परिवर्तन 532.1 ⇨  
युगांत 40.3  
सत्तांतरण 902.1  
परिवर्तन करना  
परिवर्तन करना 532.14 ⇨  
परिवर्तनकारी  
क्रांतिपूर्ण 903.19  
परिवर्तनकारी 532.18 ⇨  
परिवर्तन न होना  
परिवर्तन न होना 533.7 ⇨  
परिवर्तन लाना  
क्रांति करना 903.15  
परिवर्तनवाद  
प्रगतिवाद 884.16  
परिवर्तनवादी  
सुधारवादी 344.8  
परिवर्तन विरोधी  
रुढ़िवादी 343.24  
परिवर्तनशील  
अवसरवादी 827.18  
आपेक्ष अवरोह शील 458.54

## परिवर्तनशीलता

नाटकीय 466.19  
 परिवर्तनशील 532.17 ⇨  
 परिवर्तनशीलता  
 अवसरवादिता 827.3  
 नाटकीयता 466.2  
 परिवर्तनशीलता 532.2 ⇨  
 परिवर्तनशील लागत  
 अनियत लागत 644.10  
 परिवर्तनशील सीमा  
 घल सीमा 1001.4  
 परिवर्तन संकेत  
 नारंगी बत्ती 1067.16  
 परिवर्तनहीनता  
 अपरिवर्तन 533.1  
 अपरिवर्तनशीलता 533.2  
 परिवर्तन होना  
 परिवर्तन होना 532.13 ⇨  
 परिवर्तानु (प्र)  
 अमीबाणु 122.3  
 परिवर्तित  
 नवीकृत 64.13  
 परिवर्तित 532.16 ⇨  
 परिवर्तित वेश  
 स्वाँग 464.13  
 परिवर्तित होना  
 परिवर्तन होना 532.13  
 परिवर्ती  
 परिवर्तनशील 532.17  
 परिवर्धन  
 परिवर्धन 979.6 ⇨  
 परिवर्धित  
 परिवर्धित 979.24 ⇨  
 परिवर्धित करना  
 परिवर्धित करना 979.13 ⇨  
 परिवर्धन  
 कवघधारी 921.15  
 परिवलय  
 बाहरी घेरा 972.7  
 परिवह  
 परिवहन 1068.1  
 वायु सूची 85.2  
 परिवहन  
 परिवहन 1068.1 ⇨  
 यातायात 1067.1  
 यान 1070.1  
 वहन 1061.1  
 परिवहन कर्ता  
 वाहक 1061.20  
 परिवहन भाड़ा  
 यात्रा भाड़ा 622.13  
 परिवहन सेवा  
 परिवहन सेवा 1068.3 ⇨  
 परिवहन स्थल  
 परिवहन स्थल 1069.1 ⇨  
 परिवह  
 मिज़राब 461.100  
 परिवारी  
 आरोप कर्ता 875.9

शिकायत कर्ता 843.27  
 परिवार  
 बुआई 548.7  
 परिवार  
 कुटुंब 726.7  
 कोटि 936.1  
 गृहस्थी 235.2  
 जाति 730.1  
 दलबल 691.2  
 परिवार 726.1 ⇨  
 बीबी बच्चे 726.11  
 समूह 690.1  
 परिवार जन  
 परिवार जन 726.9 ⇨  
 परिवार नियोजन  
 गर्भ निरोध 240.4  
 परिवार नियोजन 240.2 ⇨  
 परिवार पालन  
 गृहस्थी पालन 235.6  
 परिवार पालना  
 गृहस्थी पालना 235.9  
 परिवार पुरुष  
 कुलीन पुरुष 728.6  
 परिवार प्रमुख  
 गृहपति 235.5  
 परिवार भाव  
 पारिवारिकता 726.2  
 परिवार मोह  
 गृहास्तिक 235.7  
 परिवारयुक्त  
 परिवारयुक्त 726.14 ⇨  
 परिवारयुक्ता  
 परिवारयुक्ता 726.3 ⇨  
 परिवार विभाजन  
 परिवार विभाजन 699.4 ⇨  
 परिवार संबंध  
 पारिवारिकता 726.2  
 रिश्तेदारी 715.5  
 परिवार सदस्य  
 परिवार जन 726.9  
 परिवार समष्टि  
 स्वजन 725.1  
 परिवार स्त्रियाँ  
 परिवार स्त्रियाँ 726.10 ⇨  
 परिवार स्त्री  
 कुलीन स्त्री 728.7  
 परिवार स्त्रियों 726.10  
 परिवारहीन  
 परिवारहीन 726.15 ⇨  
 परिवारहीनता  
 परिवारहीनता 726.4 ⇨  
 परिवार/स्तिक  
 गृहास्तिक 235.7  
 परिवारीय  
 परिवारीय 726.12 ⇨  
 पारिवारिक 726.13  
 परिवार  
 बाढ़ निकास 23.2

बाढ़ निकास नाला 23.11  
 परिवारक  
 वाहक 1061.20  
 परिवारहित  
 वाहित 1061.18  
 परिवारी  
 उत्प्रेतशील 21.35  
 परिवार  
 वेहलक्रदमी 1084.7  
 विघरण 1085.1  
 परिवीक्षण यंत्र  
 पैरिस्कोप 283.8  
 परिवीत  
 इस्मा: धनुष 766.15  
 परिवृत  
 पलटा [पलटी] 1027.23  
 परिवृत्ति  
 परिधि चक्रण 1033.2  
 परिवेद  
 यथार्थ ज्ञान 761.8  
 परिवेदन  
 वाद पत्र 875.2  
 परिवेदी  
 देदी 745.45  
 परिवेश  
 पड़ोस 31.3  
 परिक्षेत्र 34.3  
 परिस्थिति 69.5  
 पार्श्व भूमि 997.4  
 परिवेष्टन  
 बैठन 415.13  
 लिफाफा 444.11  
 वेष्टन 592.5  
 परिवेष्टित  
 वेष्टित 592.17  
 परिव्यक्त  
 अभिव्यक्त 428.17  
 परिव्यापक  
 व्यापक 981.12  
 सर्वव्यापक 981.13  
 परिव्यापन  
 व्याप्ति 981.5  
 संसिक्तन 1008.15  
 परिव्यापी  
 व्यापक 981.12  
 परिव्याप्त  
 व्यापक 981.12  
 परिव्याप्ति  
 व्यापकता 981.3  
 संसिक्त मिश्रण 1008.4  
 परिव्रज्या  
 तपस्या 756.21  
 संन्यास आश्रम 233.6  
 परिव्रज्या लेना  
 संन्यास लेना 233.9  
 परिव्रजक  
 परिव्रजक संन्यासी 790.14  
 प्रवासी 618.29

संन्यासी 790.11  
 परिव्रजक संन्यासी  
 परिव्रजक संन्यासी 790.14 ⇨  
 परिव्रजिका  
 संन्यासिनी 790.12  
 परिशिष्ट  
 परिशिष्ट 447.10 ⇨  
 परिशीलन  
 परिशीलन 321.26 ⇨  
 साधना 303.7  
 परिशुद्ध  
 भुगतान कृत 634.25  
 परिशुद्धि  
 परिष्कार 537.1  
 परिशून्य  
 रिक्त 1005.7  
 शून्य स्थान 33.4  
 परिशेष  
 अवशिष्ट अंश 939.7  
 घटान फल 954.9  
 परिशोध  
 प्रतिदान 641.7  
 भुगतान 634.3  
 परिशोधक  
 परिष्कारक 537.10  
 परिशोधन  
 परिष्करण 537.2  
 विशोधन 219.1  
 परिशोधित  
 संशोधित 537.11  
 परिशोष  
 अवशोषण 1002.10  
 परिश्रम  
 परिश्रम 493.1 ⇨  
 श्रमिकता 651.18  
 परिश्रम करना  
 परिश्रम करना 493.6 ⇨  
 परिश्रमपूर्वक  
 परिश्रमपूर्वक 493.14 ⇨  
 परिश्रमशील  
 परिश्रमी 493.9  
 परिश्रमशीलता  
 परिश्रमशीलता 493.2 ⇨  
 परिश्रमहीन  
 अपरिश्रमी 490.11  
 परिश्रमहीनता  
 अपरिश्रम 490.3  
 परिश्रमी  
 परिश्रमी 493.9 ⇨  
 परिश्रमिता  
 धकान 492.4  
 परिश्रुत  
 रुपात 847.3  
 परिषद  
 विधान परिषद 889.5  
 संस्था 692.1  
 सभा 694.1  
 समिति 692.20

परिचय विषयक	गणना 950.1	परिस्तीमितता	परिहास प्रेम
परिचय विषयक 889.28 ⇨	मूल्यांकन 864.4	परिस्तीमितता 1001.10 ⇨	विनोद प्रेम 385.2
परिचय सद्यस्य	परि संघवाद	संसीमता 1001.2	परिहास प्रेमी
परिचय सद्यस्य 889.8 ⇨	राज्यसंघवाद 884.14	परिस्कंद	विनोदी 385.13
परिचदीय	परि संपत्ति	परपोषित संतान 720.8 <sup>1</sup>	परिहासोक्ति
परिचय विषयक 889.26	सकल संपत्ति 624.2	परिस्कंदता	विनोदोक्ति 385.3
संस्थानीय 692.31	परिसंचाद	संचलता 1037.3	परिहास्य
सभा विषयक 694.27	परिघर्षा 436.3	परिस्तरण	हास्यप्रद 384.14
परिचदीय दल	परि सभ्य	वेष्टन 592.5	परिहित
संसादीय दल 885.16	सदस्य 692.30	परिस्थिति	पहना [पहनी] 589.24
परिबेक	परि समापन	परिस्थिति 69.5 ⇨	परिहीण
स्नानाभिषेक 221.13	कार्य समापन 522.2	संयोग 69.1	रहित 1007.3
परिबेचन	परि समाप्त	परिस्थितिगत	परिहृत
संसिक्तन 1008.15	समाप्त (कार्य) 522.4	पारिस्थितिक 69.11	अपनीत 1053.13
परिषंद	परि समाप्ति	संयोगपूर्ण 69.9	परिंदन
परपोषित संतान 720.8	समाप्ति 942.6	परिस्थितिजन्य	उपहार प्रदान 640.1
परिष्कर	परि समूहन	संयोगपूर्ण 69.9	परी
साज सामान 558.6	एकत्रण 667.1	परिस्थिति में	परी 782.4 ⇨
परिष्करण	संवरण 667.5	परिस्थिति में 69.14 ⇨	परी का साथ
परिष्करण 537.2 ⇨	परिसर	परिस्थितिबश	भूत बाधा 759.7
मार्जन 218.8	परिक्षेत्र 34.3	संयोगयश 69.12	परीक्षक
विशोधन 219.1	परिसर 604.1 ⇨	परिस्पंद	तथ्यान्वेषी 336.24
सृंगार कर्म 222.9	शिक्षालय परिसर 321.14	दलबल 691.2	परीक्षक 322.15 ⇨
शोभान्मयन 226.2	परिसरघण	स्पंद 1039.1	मीमांसक 427.30
सम्बन्धीकरण 733.2	घेराई 604.8	परिस्पर्धी	समीक्षक 398.5
परिष्कर्ता	विघरण 1085.1	प्रतियोगी 707.9	परीक्षण
परिष्कारक 537.10	परिसर मार्ग	परिस्फुरण	आज्ञमाइश 524.5
मार्जक 218.39	परिसर मार्ग 1063.22 ⇨	स्फुरण 1039.6	तर्कण 325.9
परिष्कार	परि सर्प	परिहत	नव प्रयोग 307.6
परिष्कार 537.1 ⇨	पीछा 1098.3	हल पकड़ 563.11	परीक्षण 322.10 ⇨
सम्बन्धीकरण 733.1	परि सर्पण	परिहनन	प्रथम प्रयोग 994.6
परिष्कारक	चुपचाप पलायन 916.2	घटान कर्म 954.6	विमर्शन 330.12
परिष्कारक 537.10 ⇨	रंग 1084.18	परिहरण	परीक्षा
मार्जक 218.39	परिसर्वा	अपनयन 1053.3	आज्ञमाइश 524.5
परिष्कार करना	विघरण 1085.1	अपहरण 862.1	कला समीक्षा 398.3
परिष्कार करना 537.7 ⇨	परिसार	चीर्य वृत्ति 864.1	नव प्रयोग 307.6
परिष्कारहीनता	परिक्रमा मार्ग 1063.25	परिहार	परीक्षा 322.11 ⇨
असम्भ्यता 734.1	परिसारक	अकल्याण निवारण 710.9	विमर्श 330.11
परिष्कृत	पर्यटक 1090.7	खंडन 326.3	शिक्षा परीक्षा 322.13
परिष्कृत 537.9 ⇨	परिसारी	ग्राम भूमि 552.2	परीक्षा (दे.)
सभ्य 733.13	स्नानाबदोश 1090.44	चरागाह 558.10	तथ्यान्वेषण 336.1
परिष्कृत करना	पर्यटक 1090.7	परती 552.6	परीक्षा करना
परिष्कार करना 537.7	पर्यटनप्रिय 1090.41	परित्याग 1003.1	परीक्षा करना 322.33 ⇨
परिष्कृत चर्म	परिस्तीमन	परिपूर्ण 313.14	परीक्षा देना
परिष्कृत चर्म 582.25 ⇨	क्षेत्रांकन 1001.14	प्राप प्रायश्चित्त 813.4	परीक्षा देना 322.34 ⇨
परिष्कृतता	परिस्तीमन 1001.9 ⇨	प्रहार निवारण 920.3	परीक्षा पत्र
परिष्कृतता 537.3 ⇨	परिस्तीमा	परिहारक भूमि	प्रश्नपत्र 322.16
परिष्कृत भाषा	परिस्तीमा 1001.8 ⇨	लगानमुक्त कृषि 553.4	परीक्षा परिणाम
परिष्कृत भाषा 421.27 ⇨	सीमांत 1001.19	परिहारी	परीक्षा फल 322.23
परिष्कृति	सीमा 1001.1	निवारक 920.18	परीक्षा फल
शिष्टता 733.7	परिस्तीमाहीन	परिहार्य	परीक्षा फल 322.23 ⇨
सम्बन्धीकरण 733.1	अपरिस्तीमित 1001.36	निवार्य .920.19	परीक्षा में असफल
परि संछया	परिस्तीमाहीनता	परित्याज्य 1003.5	अनुत्तीर्ण 322.40
कुल जोड़ 854.5	अपरिस्तीमितता 1001.11	परिहास	परीक्षा में सकल
परि संछयात	परिस्तीमित	विनोद 385.1	उत्तीर्ण 322.39
गिना [गिनी] 950.12	परिस्तीमित 1001.35 ⇨	हांस 384.1	परीक्षा में सकलता
परि संछयात	संसीम 1001.33	परिहासपूर्वक	उत्तीर्णता 322.24
आकलन कर्म 947.6		विनोदपूर्वक 385.15	

परिचित 771.70 ⇐

परिचित लेखा

परिचित लेखा 832.3 ⇐

परिष्कान

टोना कर्ता 759.2

परिष्कार

टोना कृत 759.19

भूत बाधाग्रस्त 759.21

परिष्ठा

परिक्रमा मार्ग 1063.25

पिंडकक्षा 4.1

परिवार

भूत बाधाग्रस्त 759.21

परिष्क

जल परी 782.6

परिष्कृषी

परी सूची 782.5 ⇐

परुआ

कामधोर बैल 127.14

परुई

भकभूजा कडाह 682.6

परुष

अभावुक 358.30

कठोर 269.17

कठोरहृदय 835.11

रसहीन 84.18

श्रुतिकटु 294.26

परुषता

कठोरता 269.3

निर्दयता 835.2

परुषोक्ति

कटु वचन 432.3

परे

अधिक 944.5

उच्चतः 982.12

उपरांत 39.16

उस पार 998.7

दूरी पर 32.10

बाहर 999.19

परेई

फ्राखता 126.52

मादा कबूतर 126.17

परेग

लौह कील 1016.14

परेड

क्रुवायद मैदान 1063.30

त्रिल 1083.6

परेड 1083.8 ⇐

सैनिक अभ्यास 907.30

परेड (अं)

परेड 1083.8

लटई 575.9

परे पेर

बाहर बाहर 999.20

परेबा

कबूतर 126.16

परेबा

ईश्वर 764.1

परेषान

अभावग्रस्त 627.17

अस्थिरचित्त 355.7

उत्पीकित 391.28

उद्दिग्ध 377.13

चिताग्रस्त 377.10

दुःखिद्याग्रस्त 501.8

दुर्दशाग्रस्त 627.22

परेषान 519.21 ⇐

भ्रमित 342.10

संकटग्रस्त 909.19

परेषान होना

परेषान होना 519.16 ⇐

परेषानी

असुविधा 519.3

अस्थिरचित्तता 355.3

उद्दिग्धता 377.4

कष्ट 392.1

चिता 377.2

चितानुभूति 353.3

दुःखिद्या 501.1

परेषानी 519.4 ⇐

भ्रम 342.1

परेषक

प्रेषक 1054.16

परेषण

प्रेषण 1054.1

परेषिती

प्रेषिती 1054.15

परेषि

ब्रह्म 764.24

परेषा

कबूतर 126.16

परोक्ष

अदृश्य स्थान 33.2

अनवलोकित 284.49

असमक्ष 1022.6

विलुप्त 824.24

परोक्ष ज्ञान

परोक्ष ज्ञान 305.8 ⇐

परोक्ष ज्ञानः शक्ति

परोक्ष ज्ञान शक्ति 305.7 ⇐

परोक्ष में

असमक्षतः 1022.8

परोक्षानुभूति

परोक्ष ज्ञान 305.6

दान 641.1

परोपकार 832.4 ⇐

परोपकारार्थ

लोकार्थ 832.13

परोपकारिता

दानीत्व 641.2

परोपकारी

परोपकारी 832.12 ⇐

परोपजीविता

परावलंबितता 648.3

परोपजीवी

परजीवी वनस्पति 111.6

परोपजीवी पावप

परजीवी वनस्पति 111.6

परोपजीवी होना

परावलंबी होना 648.7

परोल

परोल 869.3 ⇐

परोस

खिलाई 183.22

परोस 183.19 ⇐

परोस कर्म

परोस 183.19

परोस कर्मी

परोस कर्मी 183.20 ⇐

परोस कर्मी सूची

परोस कर्मी सूची 183.21 ⇐

परोसना

परोसना 183.35 ⇐

परोसने वाला

परोस कर्मी 183.20

परोसा

परोसा 183.25 ⇐

पुरी धाली 199.9

परोसैया

परोस कर्मी 183.20

परोहन

सवारी पशु 127.4

परोहा

घरसा कुआँ 19.11

पकोलेटर (अं)

घाय काठीः बरतन सूची 680.20

पाक भांड सूची 682.2

पकोलेषान (अं)

निष्काषण 195.40

पकल (अं)

अधि देतन 643.27

पर्था

कागाज़ 415.9

परघा 938.28

प्रविष्टक 1002.8

सम्पाधार पत्र 445.1

ईडविल 442.12

पर्था

कागाज़ 415.9

टिकट 622.14

परघा 938.28

प्रविष्टक 1002.8

ईडविल 442.12

पर्जन्य

ईंद्र 773.5

मेघ 55.1

वर्षा जल 88.5

वर्षा मेघ 55.5

विष्णु 768.1

पर्ण

पंच. एक पर 151.8

पलाश 13.13

पल्लव 115.1

पर्ण कुटी

पर्णकुटी 602.2

पर्णकुटी

पर्णकुटी 602.2 ⇐

पर्ण कुटी

सायु संत आश्रम 745.5

पर्णभोजनी

बकरी 127.22

पर्ण मृग

गिलहरी 127.64

पर्णशाला

पर्णकुटी 602.2

पर्ण संकुट

टोना 683.12

पर्णहरितिल

क्लोरोफिल 179.14

पर्णाव

ऋषि मुनि सूची 789.17

पर्णास

तुलसी 13.9

पर्णिनी

अप्सरा सूची 782.3

पर्णिल

पल्लवयुक्त 115.13

पर्णिला (मं)

क्लोरोफिल 179.14

पर्णी

पत्री 283.17

पल्लवयुक्त 115.13

वृक्ष 111.18

पर्प

अपाहिज गाड़ी 1070.12

पर्पट

पापक 192.18

पर्पटी

गोपी चंदन 100.14

तल 985.1

पपड़ी 980.24



- पर्यवेक्षक  
निर्माण पर्यवेक्षक 599.13  
पर्यवेक्षक 284.22 ⇨
- पर्यवेक्षण  
निर्माण पर्यवेक्षण 599.12  
पर्यवेक्षण 284.21 ⇨
- पर्यवेक्षण करना  
पर्यवेक्षण करना 284.45 ⇨
- पर्यस्त  
प्रक्षेपित 1052.19
- पर्याकुल  
कीचड़दार 214 10
- पर्याप्त  
पर्याप्त 941.6 ⇨  
सक्षम 487 25
- पर्याप्तता  
पर्याप्तता 941 1 ⇨
- पर्याप्त होना  
पर्याप्त होना 941 5 ⇨
- पर्याप्ति  
पर्याप्तता 941 1
- पर्याय  
पर्यायवाची 426 38  
मन्वतर 40 9  
लक्षण 317.5
- पर्याय कोश  
पर्याय कोश 448.13 ⇨
- पर्यायता  
पर्यायता 426.23 ⇨
- पर्याय बोध  
पर्यायता 426.23
- पर्याय बाधक  
पर्यायवाची 426.38
- पर्यायवाची  
पर्यायवाची 426.38 ⇨
- पर्यायवाची कोश  
पर्याय कोश 446.13
- पर्यायार्थकता  
पर्यायता 426.23
- पर्यावर्तन  
पुनरागमन 1093.5
- पर्याप्त  
अवरोह क्रम 991 4
- पर्युस्थान  
उठ बैठन 1029 1
- पर्येषणा  
तथ्यान्वेषण 336.1
- पर्ल (अँ)  
मोती 97.2
- पर्व  
अध्याय 447.2  
अवयव संधि 139.10  
अवसर 70.1  
उँगली: पोरवा 150.21  
उत्सव 58.1  
खंड 938 1  
घुंडी 977.5  
घतुर्दशी 44.20
- मंगलोत्सव 798.1  
मास: पक्ष 45.1  
संयुति 1010.7  
संयुति स्थल 1010.11  
समारोह 694.15  
सूर्य संक्राति 5.25
- पर्वक  
घुटना: गोल अस्थि 133.19
- पर्वणी  
प्रतिपदा 44 7
- पर्वत  
उच्चता उपमान सूची 982 13  
पर्वत 16.3 ⇨  
पर्वताकार ढेर 686 8  
सात. उपमान सूची 948.30
- पर्वतकाय  
महाकाय 154.22
- पर्वतकायता  
महाकायता 154 7
- पर्वत गुहा  
पर्वत गुहा 15.10 ⇨
- पर्वतजा  
पार्वती 776 9
- पर्वत ढाल  
पर्वत ढाल 16.12 ⇨
- पर्वत पृष्ठ  
पर्वत पृष्ठ 16.10 ⇨
- पर्वत माला  
पर्वत श्रेणी 16 9
- पर्वत मूल  
तलहटी 16 13
- पर्वत राज  
ऊँचा पर्वत 16 4
- पर्वत वासिनी  
गायत्री 774 34
- पर्वत वाची  
पर्वत वासी 616 19 ⇨
- पर्वत शिखर  
पर्वत शिखर 16 11 ⇨
- पर्वत श्रेणी  
पर्वत श्रेणी 16.9 ⇨
- पर्वत पत्तण  
विपरीतता उपमान सूची 310 13
- पर्वताकार ढेर  
पर्वताकार ढेर 686 8 ⇨
- पर्वताग्र  
पर्वत शिखर 16 11
- पर्वतात्मज  
मैनाक 17 14
- पर्वताभिवान  
पर्वतारोहण 1087.6
- पर्वतारोहण  
पर्वतारोहण 1087.6 ⇨
- पर्वतारोही  
पर्वतारोही 1087.7 ⇨
- पर्वतेश्वर  
हिमालय 17.7
- पर्वतोपदेश  
सरपन आन द माउंट 739.13
- पर्वरीण  
पल्लव रस 84.5
- पर्वीय  
उत्सवी 56.8
- पर्वेश  
कुबेर 779.4  
द्युम्ना 8.2  
ब्रह्मा 766 1  
वरुण 773 43
- पर्वोत्सव  
उत्सव 56.1
- पर्शु  
परशु 924.14
- पर्शुका  
पसली 133 12
- पर्शुपाणि  
परशुराम अवतार 769.28
- पर्ल (अँ)  
बटुआ 672 9
- पर्लनल कंप्यूटर  
पर्लनल कंप्यूटर 951.2 ⇨
- पर्लनल हाइजीन (अँ)  
आत्मसुजीविता 170.3
- पर्लपेक्टिव  
पर्लपेक्टिव 404.19 ⇨
- पर्लपेक्टिव (अँ)  
दृष्टि क्रम 282 7  
पर्लपेक्टिव 404 19
- पर्लर (अँ)  
परोस कर्मी सूची 183 21  
पोतनीस 1080 23  
विमान पर्लर 1081 6
- पर्लकष  
असुर दानव दैत्य राक्षस 783.2
- पर्लकषा  
पलारा 13 13  
मक्खी 122 37
- पर्लग  
पलंग 594.10 ⇨
- पर्लग चादर  
पलंग चादर 593.33 ⇨
- पर्लग पिरसु  
खटमल 122 17
- पर्लगपोश  
पलंग चादर 593.33
- पर्ल  
पल 50.14 ⇨  
सूखा डठल 114.4  
सैकंड 50.10
- पलक  
पलक 141 13 ⇨
- पलक झपकते  
शीघ्रत: 496 13
- पलक झपकाई  
आँख मारना: कर्म 284 7

## पलकदरियाव

### पलकदरियाव

कोमलहृदय 834.15  
दयार्द्र 834.14  
पलक पीवडे विछाए डैठे रहना  
आतुर प्रतीक्षा करना 1057.6  
पलकः रोम  
पलकः रोम 141.14 ⇨  
पलगंड  
पलस्तर कर्मी 599.29  
पल छिन  
अल्प काल 38.4  
पल छिन गिनना  
आतुर प्रतीक्षा करना 1057.6  
पलजीवी हवा  
अल्प कालीनता उक्ति सूची 38.9  
पलट कर होना  
प्रत्यावर्तित होना 71.8  
पलट जाना  
अवसरवादी होना 827.12  
पलटता [पलटती]  
आवृत्तिशील 71.9  
पलटन  
पलटन 932.26 ⇨  
लुङ्कन 1031.7  
सेना 932.1  
पलटना  
अवसरवादी होना 827.12  
क्रांति करना 903.15  
दिशा बदलना 1098.18  
परिवर्तन करना 532.14  
पलटना 1027.14 ⇨  
पीछे जाना 1095.12  
पुनरावर्तित होना 73.3  
प्रतिनोदित होना 1051.20  
प्रत्यावर्तित होना 71.8  
मुकरना 338.25  
वापस देना 638.11  
विनियम करना 636.6  
पलटनिया  
सैनिक 934.1  
पलटने वाला  
पलटने वाला 1027.24 ⇨  
पलटवाना  
वापस मैंगाना 1055.9  
पलटा  
पलटने वाला 1027.24  
पलटा 681.10 ⇨  
पलटा [पलटी]  
गृहागत 1100.7  
पलटा [पलटी] 1027.23 ⇨  
पुनरागत 1093.18  
पुनरावर्तित 73.4  
प्रतिनोदित 1051.35  
लुङ्का [लुङ्की] 1031.29  
पलटाई  
पलटाव 1027.6  
पलटाऊ  
पलटने वाला 1027.24

पलटा खाना  
कलाबाजी खाना 1086.19  
पलटाना  
परिवर्तन करना 532.14  
वापस देना 638.11  
पलटाव  
पलटाव 1027.6 ⇨  
पुनरागमन 1093.5  
प्रतिनोदन 1051.4  
पलटी  
कलाबाजी 1086.14  
पलटाव 1027.6  
प्रतिनोदन 1051.4  
पलटी खाना  
कलाबाजी खाना 1086.19  
पलट्ट  
पलट्टने वाला 1027.24  
पलङ्का  
तराजू पलङ्का 962.23  
मानदंड 957.5  
पलङ्का: डोरी  
तराजू पलङ्का डोरी 962.24  
पलङ्गी  
तराजू पलङ्का 962.23  
पलङ्गी  
पालथी 1028.7  
पल डो पल  
अल्प काल 38.4  
पलना  
पालना 1034.17  
पल पल  
प्रति क्षण 1049.19  
पल मे  
शीघ्रतः 496.13  
पलाल  
असुर दानव दैत्य राक्षस 783.2  
दलदल 25.28  
मांस 132.1  
पलव  
मछली जाल सूची 1013.14  
पलवा  
ई.ख. नीरस ऊपरी भाग 526.4  
पलवार  
पलवार 550.7 ⇨  
माल नौका 1072.34  
पलस्तर  
धेपय्य सूची 1012.4  
पलस्तर 599.27 ⇨  
पलास्टर 174.18  
पलस्तर करना  
पलस्तर करना 599.39 ⇨  
पलस्तर कर्मी  
पलस्तर कर्मी 599.29 ⇨  
पलस्तर कुत  
पलस्तरित 599.41  
पलस्तरण  
पलस्तरण 599.28 ⇨

पलस्तरित  
पलस्तरित 599.41 ⇨  
पलखी  
पलखी 671.23  
पलहा  
पल्लव 115.1  
पलांबु  
प्याज़ 281.24  
पला  
तराजू पलका 962.23  
पली 681.9  
पला [पली]  
पालतू 127.95  
पालित पोषित 720.19  
पलाग्नि  
पिता 215.14  
पलाद  
असुर दानव दैत्य राक्षस 783.2  
पिशाय 786.8  
सामिचाहारी 205.4  
पलाइता  
सामिषता 205.1  
पलान  
जीन 595.47  
पशु पीठ चादर 593.25  
पलानी  
छप्पर 615.1  
जीन 595.47  
पलाप  
गला: रस्सी 555.15  
पलायन  
पलायन 916.1 ⇨  
भगदड़ 916.8  
युद्ध पलायन 916.5  
पलायन करना  
पलायन करना 916.10 ⇨  
पलायन कर्ता  
युद्ध पलायित 916.23  
पलायन न करना  
प्रतिरोध करना 915.4  
पलायनशील  
पलायनशील 916.18 ⇨  
पलायित  
पलायित 916.19 ⇨  
पलाल  
अनाज: छिलका 116.8  
सूखा उठल 114.4  
पलाव  
पलाव 586.24 ⇨  
पलाव: कैथेला  
पलाव: कैथेला 586.26 ⇨  
पलाव: छोर  
पलाव: छोर 586.25 ⇨  
पलाव: पिछेला  
पलाव: पिछेला 586.27 ⇨  
पलाश  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
नगर वृक्ष सूची 13.2

पलाश 13.13 ⇨  
पल्लव 115.1  
पलाशी  
पल्लवयुक्त 115.13  
पिशाय 786.8  
लाक्षा 290.26  
पलास्तर  
पलास्तर 174.18 ⇨  
पलास्तर (अँ)  
पलास्तर 174.18  
पलिका  
पली 681.9  
पलिघ  
फाटक 608.9  
पलिया  
पली 681.9  
पली  
पली 681.9 ⇨  
पलीला  
अति क्रुद्ध 373.30  
बत्ती 568.8  
बारुद पलीला 927.21  
भूत निवारक बत्ती 759.10  
पलीला लगाना  
विस्फोट प्रणोदित करना 1051.21  
पलीद  
कुटिल 818.7  
दुर्जन 818.5  
पूयित 169.15  
भूत 786.1  
मलिन 217.6  
पलुआ  
पालतू 127.95  
पलुहाना  
पल्लव निकलना 117.15  
पलेंडी  
पलेंडी 671.23 ⇨  
पलेट  
प्लीट 975.6  
पलोथन  
पलोथन 192.4  
पलोथन  
पलोथन 192.4 ⇨  
पल्प बोर्ड (अँ)  
गत्ता 415.12  
पल्लव  
पैखड़ी 938.26  
पल्लव 115.1 ⇨  
पल्ला 990.9  
विस्तार 981.2  
पल्लवक  
अशोक 13.4  
लक्षणा 811.8  
व्यभिचारी 806.10  
पल्लव गिरना  
पल्लव गिरना 117.16 ⇨  
पल्लव गुच्छ  
पल्लव गुच्छ 115.3 ⇨

पल्लवप्राहिता  
अल्पज्ञता 306.7  
पल्लवग्राही  
अल्पज्ञ 306.17  
पल्लवः छाता  
पल्लव. छाता 584.30 ⇨  
पल्लववन  
पल्लववन 117.7 ⇨  
व्याख्या 427 15  
पल्लव निकलना  
पल्लव निकलना 117.15 ⇨  
पल्लव पतन  
पल्लव पतन 117.8 ⇨  
पल्लव पात  
पल्लव पतन 117.8  
पल्लव पात्र  
पल्लव भरतन 680.7  
पल्लव प्लेट  
पल्लव 685.4  
पल्लव भरतन  
पल्लव भरतन 680.7 ⇨  
पल्लवयुक्त  
पल्लवयुक्त 115.13 ⇨  
पल्लव रस  
पल्लव रस 84.5 ⇨  
पल्लव वृक्ष  
पल्लव वृक्ष 111.24 ⇨  
पल्लवहीन  
पल्लवहीन 115.14 ⇨  
पल्लवहीन वृक्ष  
पल्लवहीन वृक्ष 111.26 ⇨  
पल्लवार्कुर  
पल्लवार्कुर 113.3 ⇨  
पल्लवयाद  
हिरन 127.42  
पल्लवयाधार  
शाखा 114.10  
पल्लवित  
पल्लवयुक्त 115.13  
पल्लवित होना  
पल्लव निकलना 117.15  
पल्लवबी  
पल्लवयुक्त 115.13  
पल्लव वृक्ष 111.24  
वृक्ष 111.18  
पल्ला  
कपाट पल्ला 609.11  
घुँघट 591.3  
तपायु पलका 962.23  
पलाय 586.24  
पल्ला 990.9 ⇨  
सामनाः पल्ला 585.72  
पल्ला पकड़ना  
शरण लेना 910.7  
पल्ला बौधना  
विवाह करना 799.45  
पल्लवी  
छोटा ग्राम 620.4

पर्णकुटी 602.2  
पत्नी 681.9  
पल्ली भवन  
समूह भवन 602.17  
पल्लू  
घुँघट 591.3  
पलाय 586.24  
पल्लेदार  
राज मज़दूर 599.22  
पल्लेदारी  
कुलीगिरी 1061.3  
राज मज़दूरी 599.21  
पल्ले बौधना  
स्त्री का विवाह होना 799.44  
पल्ले बौधना  
बलात देना 638.10  
पल्लयल  
छोटा तालाब 18.11  
जोहड़ 18.7  
पल्लयला  
जोहड़ 18.7  
पवन  
पवन 773.36 ⇨  
पौष उपमान सूची 948.26  
मरुत 781.1  
वायु 85.1  
विशोधन 219.1  
विष्णु 768.1  
सघल वायु 85.4  
पवन (दे. मरुत और वायु)  
पवन 773.36  
पवन कुमार  
भीम 771.76  
हनुमान 781.19  
पवन गति  
विमान गति 1081.31  
पवनज  
हनुमान 781.19  
पवन झकोश  
झोंका 85.12  
पवन तनय  
हनुमान 781.19  
पवन देव  
वायु 85.1  
पवन नंद  
हनुमान 781.19  
पवन पुत्र  
भीम 771.76  
हनुमान 781.19  
पवन में विमान गति  
विमान गति 1081.31  
पवन यान  
पाल नौका 1072.9  
पवन सुत  
भीम 771.76  
हनुमान 781.19  
पवना  
पीना 881.12

पवनात्मज  
भीम 771.76  
हनुमान 781.19  
पवनाहार उपवास  
निराहार उपवास 748.3  
पवनी  
झाड़ू 218.17  
पीनी 681.11  
पवमान  
वायु 85.1  
सोम देव 773.49  
पवमान सूक्त  
सूक्त सूची 741.15  
पवरीया  
द्वार पहरदार 908.13  
पवरीका  
महाकाव्य 451.12  
पवाई  
पादत्राण एक पैर 588.10  
पवि  
अग्नि 106.1  
इंद्र वज्र 928.8  
बाण 926.16  
बाण अग्रभाग 926.18  
भाला नोक 925.7  
पविता  
विशोधन कर्ता 219.10  
पवित्र  
छना [छनी] 1009.22  
धर्म ग्रथीय 738.5  
धर्मशील 735.13  
पापहीन 813.9  
यज्ञोपयुक्त 753.33  
वर्षा जल 88.5  
विष्णु 768.1  
शंघ (आहार) 198.13  
स्वच्छ 218.33  
पवित्र आत्मा  
होली घोस्ट 765.4  
पवित्रक  
दर्भ घास 11.9  
पीपल 13.14  
यज्ञोपवीत 798.22  
विशोधक 219.9  
स्वच्छक 218.38  
पवित्र कर्ता  
विशोधन कर्ता 219.10  
पवित्र कर्म  
पुण्य 814.1  
पवित्रता  
धर्मशीलता 735.2  
पापहीनता 813.1  
विवाह निष्ठा 805.1  
स्वच्छता 218.1  
पवित्र संबंध  
भाई बहन संबंध 723.1  
पवित्र स्थान  
पवित्र स्थान 745.1 ⇨

पवित्र स्मारक  
मज़ार 255.8  
पवित्रा  
तुलसी 13.9  
पवित्रात्मा  
पुण्य कर्ता 814.5  
सदाशय 817.10  
पवित्रारोपण  
उपनयन संस्कार 798.20  
पवित्री  
विशोधक 219.9  
स्वच्छक 218.38  
पवित्रीकरण  
स्वच्छीकरण 218.2  
पविधर  
इंद्र 773.5  
पवीया  
कुल्लोच 1084.6  
चौकड़ी घाल 1084.25  
पव्या  
घीथाई साइज़ 961.5  
पव्या बोलत 678.3  
पीया 962.46  
मद्य 209.1  
पव्या बोलत  
पव्या बोलत 678.3 ⇨  
पशम  
पशमीना 568.10  
पेट पेड़ रोम 135.6  
पशमीना  
पशमीना 568.10 ⇨  
पशमीना 580.30 ⇨  
पशु  
अधम पुरुष 840.3  
आत्मा 763.1  
जीव 121.4  
पशु 127.1 ⇨  
बलि पशु 754.10  
पशुः आंत्र  
पशु. आंत्र 152.3 ⇨  
पशु आखेट  
पशु आखेट 252.12 ⇨  
पशु आखेटक  
पशु आखेटक 252.13 ⇨  
पशु आरूढ़  
पशु आरूढ़ 1082.30 ⇨  
पशु आरोही  
पशु आरूढ़ 1082.30  
पशुः औषध पान घोंगा  
नलवा 684.3  
पशु कर्म  
पशु बलि 754.8  
पशु क्रिया  
पशु बलि 754.8  
पशुघात  
पशु बलि 754.8  
पशुघर  
पशु आरूढ़ 1082.30

## पशु चालक

### पशु चालक

पशु चालक 1082.13 ⇨

### पशु चालन

पशु चालन 1082.12 ⇨

पशु: जल पान स्थान

पशु जल पान स्थान 207.12 ⇨

### पशु ठेला

पशु ठेला 1071.9 ⇨

### पशुता

वन्धता 734.5

### पशुलापूर्ण

वन्धतापूर्ण 734.17

### पशुधन

पशुधन 127.7 ⇨

### पशु पक्षी आहार

पशु पक्षी आहार 556.1 ⇨

### पशु पक्षी और मनुष्य

जीव जगत 121.3

### पशु पक्षी घृत

प्राणी घृत 481.4

### पशु पक्षी द्वारा प्रसव करना

पशु पक्षी द्वारा प्रसव करना 244.12 ⇨

### पशु पक्षी लड़ाई

प्राणी घृत 481.4

### पशु पक्षी: शिशु

पशु पक्षी: शिशु 230.8 ⇨

### पशुपति

शिव 767.1

शिव आठ रूप सूची 767.28

### पशुपथ

पशुपथ 1063.48 ⇨

### पशु: पानी का हीज

पशु पानी का हीज 18.16 ⇨

### पशुपाल

कार्तवीर्य 769.31

### पशु पाश

पशु पाश 1013.12 ⇨

बलि रज्जु 754.6

### पशु पीठ चादर

पशु पीठ चादर 593.25 ⇨

### पशु पूँछ

पशु पूँछ 151.10 ⇨

### पशु बलि

पशु बलि 754.8 ⇨

### पशु बलि समय

पशु बलि समय 754.9 ⇨

### पशु बाज़ार

पशु बाज़ार 683.17 ⇨

### पशु धूण

पशु धूण 241.12 ⇨

### पशुमेध

पशु बलि 754.8

### पशुमेध मंत्र

मंत्र सूची 741.4

### पशुमेध यज्ञ

यज्ञ सूची 753.2

### पशु यान

जोत गाड़ी 1071.28

### पशु रज्जु

बलि रज्जु 754.6

### पशुराज

सिंह 127.50

### पशु रोम

पशु रोम 135.3 ⇨

### पशु लोम

क्रूर 582.17

### पशुवन

विश्विया घर 603.10

### पशु विष्ठा

पशु विष्ठा 216.6 ⇨

पशु वेग कम करना

पशु वेग कम करना 1043.15 ⇨

पशु वेग बढ़ाना

पशु वेग बढ़ाना 1043.12 ⇨

### पशुराशाला

पशुराशाला 603.19 ⇨

### पशु शाबक

पशु: शिशु 230.11

### पशु: शिशु

पशु: शिशु 230.11 ⇨

### पशुशेवक

मानव 128.1

### पशु सज्जा

पशु सज्जा 555.24 ⇨

### पशु समूह

पशु समूह 690.9 ⇨

### पशु सवार

पशु आरूढ़ 1082.30

### पशु स्तन

धन 146.10

### पशु

उत्तर कालीन 60.13

पशु 995.16 ⇨

पश्चिमी 29.33

### पशुचंगता

प्रतिगामी 1095.22

### पशुचगत

प्रतिगत 1095.21

### पशुचगति

पशुचगति 1095.5 ⇨

### पशुचगामिता

पशुचगति 1095.5

### पशुचगामी

अवनतिशील 535.6

प्रतिगामी 1095.22

### पशुचजला

अनुजला 723.11

### पशु जल

तटवर्ती प्रवाहहीन जल 21.13

### पशुचतः

पशुचतः 995.18 ⇨

### पशुचता

उपरांतता 39.7

पशुचता 995.4 ⇨

### पशुचदर्शी

प्रतिगामी 1095.22

### पशुचदेय

अनुदेय 634.29

### पशुचभाग

पशुचभाग 995.6 ⇨

### पशुचभागीय

पशु 995.16

### पशुचभू

पशुचभूमि 995.5

### पशुचभूमि

पशुचभूमि 995.5 ⇨

### पशुचरंभ्र

शिवरंभ्र 138.5

### पशुचलिखितता

अधोलिखितता 430.7

### पशुचवर्तिता

पशुचता 995.4

### पशुचस्तर

पीछे हटने वाला 916.24

### पशुचस्तरण

पीछे हटना: कर्म 916.6

### पशुचसूची

अनुसूची 993.9

### पशुचस्थ

पशु 995.16

### पशुचस्थता

पशुचता 995.4

### पशुचस्थ होना

पीछे होना 995.9

### पशुचात

अततः 995.17

उत्तर काल में 60.17

उपरांत 39.16

पछेती 62.22

### पशुचात काल

उत्तर काल 60.5

### पशुचातजात

पशुचातजात 62.20 ⇨

### पशुचात जातक

पशुचातजात 62.20

### पशुचातजातता

पशुचातजातता 62.8 ⇨

### पशुचातता

पछेतीपन 62.10

### पशुचात देय

अनुदेय 634.29

### पशुचातपक्ष्यता

पशुचातजातता 62.8

### पशुचाताप

कनकेशन 751.19

पशुचाताप 380.4 ⇨

### पशुचाताप कक्ष

कनकेशनल 745.23

### पशुचातापप्रस्त

पशुचातापपूर्ण 380.12

### पशुचातापपूर्ण

पशुचातापपूर्ण 380.12 ⇨

### पशुचाताप होना

पशुचाताप होना 380.9 ⇨

### पशुचातापी

पशुचातापी 380.13 ⇨

### पशुचाहर्तिता

उत्तर कालीनता 60.6

### पशुचाहर्ती

उत्तर कालीन 60.13

### पशुचाहर्ती सूची

अनुसूची 993.9

### पशुचाद्घाट

गरदन 145.5

### पशुचानुताप

पशुचाताप 380.4

### पशुचारोही

पशुचारोही 1082.3 ⇨

### पशुचार्य

उत्तरार्थ 447.12

### पश्चिम

अतिम 995.11

आठ दिशा सूची 29.6

चार दिशा सूची 29.5

पशु 995.16

पश्चिम 29.12 ⇨

पश्चिम भारत 28.5

पश्चिमी भूगोलाथ 10.7

### पश्चिम दक्षिण

दक्षिण पश्चिम 29.16

पश्चिम दिशा दर्शी यंत्र

क्रिबलानुमा 29.19

### पश्चिम पंजाब

पंजाब (पाकिस्तान) 27.21

### पश्चिम पवन

पश्चिम पवन 85.21 ⇨

### पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल 28.48 ⇨

पश्चिम बंगाल: राजधानी

पश्चिम बंगाल राजधानी 28.49 ⇨

### पश्चिम भारत

पश्चिम भारत 28.5 ⇨

### पश्चिम भारत विषयक

पश्चिम भारतीय 28.77

### पश्चिम भारतीय

पश्चिम भारतीय 28.77 ⇨

### पश्चिमा

पश्चिम 29.12

### पश्चिमाचल

अस्ताचल 17.9

### पश्चिमार्थ

पश्चिमी भूगोलाथ 10.7

### पश्चिमाशा

पश्चिम 29.12

### पश्चिमी

पश्चिम भारतीय 28.77

पश्चिमी 29.33 ⇨

### पश्चिमी गोलार्थ

पश्चिमी भूगोलाथ 10.7

### पश्चिमी घाट

भारत उपमहाद्वीप: पूर्व सूची 17.1

पश्चिमी भूगोलार्ध  
पश्चिमी भूगोलार्ध 10.7 ⇨  
पश्चिमीय  
पश्चिमी 29 33  
पश्चिमी सीमांत  
पश्चिमी सीमांत 1001.20 ⇨  
पश्चिमोत्तर  
उत्तर पश्चिम 29 14  
पश्चीय  
पश्च 995 16  
पश्चोक्त  
अधोलिखित 430 22  
पश्चोक्तता  
अधोलिखितता 430.7  
पश्च  
पश्चमीना 568.10  
पश्चंग  
तराजू पासन 962.25  
पश्चंगा  
तराजू पासंग 962 25  
पश्चंगा  
वाहित्र भार 959.59  
पश्चंद  
पश्चंद 400.11 ⇨  
प्रिय 369 7  
रुचि 400 1  
सहमति प्राप्त 337 20  
पश्चंद आना  
पश्चंद आना 400 10 ⇨  
प्रिय होना 369 6  
पश्चंदगी  
पश्चंदगी 400 3 ⇨  
प्रिचता 369 1  
पश्चंद: चिह्न  
स्वीकृति चिह्न 407 4  
पश्चंददीवा  
प्रिय 369 7  
पश्चंद न होना  
पश्चंद न होना 401.7 ⇨  
पश्चंददीवगी  
पश्चंदगी 400.3  
पश्चंदीदा  
अनुरोधित 350 19  
पश्चंद 400 11  
पश्चंदीदापन  
पश्चंदगी 400 3  
पश्च  
अतत: 995 17  
उपपात 39 16  
पश्च (अं)  
पूय 167 16  
पश्चनी  
अन्नप्राशन सत्कार 798.10  
पश्चपेश  
विमर्श 330.11  
पश्चनीदा [पश्चनीदी]  
अबलिख 159 12  
उत्साहहीन 492.13

पसरदटा  
पसरदटा 663 13  
पसरना  
लेटना 1027.9  
विस्तीर्ण होना 981.6  
शाखा निकलना 117.14  
पसरने बासा  
प्रसारशील 979 18  
पसरना [पसरनी]  
अनुकृतिज 1020 12  
प्रसारित 979.17  
विस्तीर्ण 981.10  
विस्फारित 119 12  
शयित 1027 15  
पसरनाब  
शाखन 117 6  
पसरनी  
पसरनी 133.12 ⇨  
पसरनी बंजर  
पसरनी पजर 133.13 ⇨  
पसरार  
प्रसार 979 3  
पसरारना  
छितराना 668 21  
प्रसार करना 979 11  
बिछाना 592 10  
पस्राय  
मोड़ 208 17  
पस्राजता [पस्राजती]  
झावशील 1032 27  
पस्राजना  
खिन्न होना 380 8  
दवा आना 834 9  
द्विच होना 80 4  
पस्राजना आना 215 30  
प्रसन्न होना 381.4  
प्रसन्न हुण्ट होना 374 15  
प्रसन्न होना 1082 16  
पस्राजा [पस्राजी]  
दयाई 834.14  
पस्राजना  
अति परिभ्रम 493.3  
परिभ्रम 493 1  
स्वेद 215.3  
पस्राजना आना  
पस्राजना आना 215.30 ⇨  
बहुत धकना 492.11  
पस्राजना बहना  
पस्राजना आना 215.30  
पस्राजना बहाना  
अति परिभ्रम करना 493 7  
पस्राजने की कथाई  
सभ्रम आय 643.2  
पस्राजक  
कृष्ण निर्यास 84 8  
स्वेद 215 3  
पस्राजरी  
पस्राजरी 982.45

पसेय  
कथलोदु 167 15  
देव रुधिर 131 2  
यूष्ण निर्यास 84.8  
स्वेद 215 3  
पसोपेश  
दुग्धिया 501 1  
विमर्श 330 11  
पस्त  
धका [धकी] 492.15  
पराजित 913 5  
बहुत धका 492 16  
पस्ताहिम्मत  
उत्साहहीन 492 13  
पस्त होना  
उत्साह भंग होना 492 8  
साहस टूटना 395 17  
पस्ती  
अबसादानुभूति 353 5  
उत्साहहीनता 492 1  
धकान 492 4  
पस्ती 169 6 ⇨  
पश्चान  
अभिज्ञान 356 11  
गुणज्ञता 305 15  
धर्म चिह्न 407 7  
परिचय 315 1  
परिभाषा 317 1  
परीक्षा 322 11  
प्रतीक 408 1  
लक्षण 317 5  
विषेक 301 7  
हुलिया 317 11  
पश्चान कर्म  
अभिज्ञान 356 11  
पश्चानमना  
अभिज्ञान करना 356 16  
कसीटी पर कसना 566 15  
पश्चान पत्रक  
परिचय पत्र 704 4  
पश्चान बसाना  
लक्षण बताना 317.14  
पश्चाना [पश्चानी]  
अभिज्ञात 356 28  
पहनना  
पहनना 589.22 ⇨  
पहनने बाला  
वेशाघारी 589.26  
पहनना [पहनी]  
पहनना [पहनी] 589.24 ⇨  
पहनुब  
परिधान 583 1  
पहनाबा  
धार्मिक वेश 589 7  
परिधान 583 1  
वेश 589 1  
पहर  
पहर 49.1 ⇨

पहरन  
पहरन 585.25  
पहरना  
पहनना 589 22  
पहर पुराना  
बासी 197.45  
पहरा  
पहरा 908.5 ⇨  
पहरा चौकी  
पहरा चौकी 908.6 ⇨  
पहरा देना  
पहरेदारी करना 908.16  
पहरा भीनार  
पहरा भीनार 908.7 ⇨  
पहरावनी  
उपहार परिधान 583.22  
पहराबा  
परिधान 583 1  
पहरी  
पहरेदार 908 9  
पहरुआ  
पहरेदार 908 9  
पहरेदार  
द्वार: पहरेदार 908 13  
पहरेदार 908 9 ⇨  
पहरेदारी  
पर्यवेक्षण 284 21  
पहरेदारी 908.8 ⇨  
पहरेदारी करना  
पहरेदारी करना 908 18 ⇨  
पहल  
आयाम 964 1  
उपक्रम 521 4  
पार्श्व 997 1  
प्रथम आक्रमण 914.6  
प्रथम करण 505 7  
बाल 147 5  
रुअड 568 6  
पहलवार  
आयामयुक्त 984 20  
बहुपार्श्वीय 997 10  
पहलवान  
अस्थि वैद्य 174 9  
कुरतीबाज़ 486 9  
पहलवान 486.2 ⇨  
योद्धा 934.15  
पहलवानी  
कुरती 468.7  
कुरतीबाज़ी 486.8  
पहलवानी 486.1 ⇨  
व्यायाम 485 1  
पहला  
अगेती 62 21  
पहला [पहली]  
अग्र 994 18  
आदिम 63.7  
नवीन 64 10  
पहला [पहली] 948.85 ⇨

## पहला आदमी

पारंपरिक 795 13  
पूर्व कालीन 60.14  
प्रथम स्थानीय 707 11

### पहला आदमी

प्रथम पुरुष 236 13  
पहला इनाम  
प्रथम पुरस्कार 957 3

पहला क्रम  
उपक्रम 521 4

### पहला छंद

गीत आरम्भिक भाग 451 24

### पहला छोटा पंख

पहला छोटा पंख 151 3 ⇌

### पहला, दूसरा, तीसरा

पूरण सख्या 949 10

### पहला धावा

प्रथम आक्रमण 914 6

### पहलापन

नवीनता 64 3

### पहला पहर

दिन पहला पहर 49 3

प्रभात काल 47 4

### पहला पिछला

आरम्भिक अंतिम 994.14

### पहला मनु

स्वायंभुव मनु 788 6

### पहला शेर

गजल आरम्भिक शेर 452 30

### पहला हिस्सा

पूर्वार्ध 447 11

### पहली ईंट

नीचे रखाई 599 23

### पहली तिथि

प्रतिपदा 44 7

### पहली पंक्ति

सम्मान स्थान 854 7

### पहली पेशी

कच्ची पेशी 876.6

### पहली बार

अभूतपूर्वत 312 21

### पहली बार होना

अभूतपूर्व होना 312 13

### पहली बिक्री

पहली बिक्री 661 3 ⇌

### पहली मुलाकात

नव परिचितता 704.8

### पहली रात

मधु यामिनी 800.33

### पहलू

आयाम 964 1

करवट 1027 4

गोदी 721 7

दिशा 29.1

पार्श्व 997.1

बगल 147.5

वाद विषय 437.8

### पहलूदार

बहुपार्श्वीय 997 10

### पहले

अग्रत 994 22

आगे आगे 1096 14

आरम मे 994 20

पूर्व काल मे 60.18

पूर्वत 60 19

प्रथमत 505 38

समय पूर्वत 62 24

सुदूर भूत में 36 32

### पहले का समय

पूर्व काल 60 7

### पहले की तरह

यथापूर्वत 533 17

### पहले जैसा

अपरिवर्तित 533 9

यथापूर्व 533 13

### पहले जैसा नहीं

परिवर्तित 532 16

### पहले जैसा रहना

परिवर्तन न होना 533 7

### पहले जैसे

यथापूर्वत 533 17

### पहले तीन खलीला: निवा

नमाज़. तबरा 751 16

### पहले न हुआ होना

अभूतपूर्व होना 3:2 13

### पहले न होना

अभूतपूर्व होना 312 13

### पहले पहल

अभूतपूर्वत 312 21

पहले पहल 72 7 ⇌

प्रथमत 505 38

### पहले या बाद में

मित्र काल मे 60 15

### पहले से

आरभत 994 21

पारंपरिकत 795 17

### पहले से खरीदना

आरभित करना 660 15

### पहले से चला आता

पारंपरिक 795 13

### पहले से तय होना

प्रारब्धाधीन होना 260.20

### पहले से होते आना

परिपाटी होना 514.12

### पहले होना

समय से पहले होना 62 11

### पहाड़

कठिन कार्य 519 2

पर्वत 16.3

पर्वताकार ढेर 686 8

### पहाड़

पहाड़ा 955.5 ⇌

### पहाड़िया

पर्वत वासी 616 19

### पहाड़ी

छोटा पर्वत 16.5

पर्वत 16.3

राग रागिनी सूची 457.24

### पहाड़ी [पहाड़िन]

पर्वत वासी 616 19

### पहाड़ी कंबल

पहाड़ी कंबल 593.7 ⇌

### पहाड़ी डोली

पहाड़ी डोली 1071.22 ⇌

### पहाड़ी मिर्च

शाक मिर्च 278.7

### पहिएदार यान

चक्र यान 1070 2

### पहिए में लहक होना

लहकना 1084.42

### पहिया

पाठीन 125 7

### पहिया

निम्नता उपमान सूची 983 7

पहिया 1077 1 ⇌

### पहिया इतर अन्य चक्र

चक्र 1077 31

### पहिया इतर गाड़ी भाग

पहिया इतर गाड़ी भाग 1076.19 ⇌

### पहिया: घेरा

नेमि 1077 8

### पहिया: टैक

लहक 1084.21

### पहिया: धुरा

अक्ष दंड 1077 12

### पहिया: नाभि

पहिया नाभि 1077.4 ⇌

### पहिया: लीक

लीक 1063.18

### पहिया: स्केट

पहिया स्केट 588.37 ⇌

### पहिया स्केटिंग

रोलर स्केटिंग 477.20

### पहुँच

आगमन 1093.1

गतव्य प्राप्ति 1100.3

पैठ 1094 14

प्रताप क्षेत्र 849.6

प्रवीणता 303 8

प्रवेश्यता 1094.2

प्रहार सीमा 918.2

प्राप्ति 637 2

मर्मज्ञता 305.16

रसीद 632.25

सफलता 512.1

समकक्ष आगमन 1095.3

### पहुँच के बाहर होना

अप्राप्य होना 639.16

### पहुँचना

आना 1093.6

गतव्य प्राप्त होना 1100 5

पहुँचना 1053.8 ⇌

प्राप्त होना 637.4

बोय करना 301.18

समकक्ष पहुँचना 1095.9

### पहुँचने वाला

समकक्ष आगतुक 1095.18

### पहुँचवाना

भोजना 1054.10

### पहुँचा

पहुँचा 149.9 ⇌

सिद्ध साधु 790.30

### पहुँचा [पहुँची]

अति अनुभवी 303.18

अति कुटिल 818.8

आगत 1093.11

गतव्यप्राप्त 1100.6

दौंयबाज़ 819 19

पहुँचा [पहुँची] 1053.16 ⇌

आरगत 1097 15

प्रवीण 303 22

प्राप्त 637 8

### पहुँचाई

पहुँचाई 1053 5 ⇌

### पहुँचा-गट्टा: हथ

कलाई 149 10

### पहुँचाना

पहुँचाना 1053.9 ⇌

वहन करना 1061.15

### पहुँचाने वाला

पहुँचाने वाला 1053 17 ⇌

### पहुँचाया [पहुँचाई]

वाहित 1061 18

### पहुँची

कलाई कवच 921.7

राखी 57 21

### पहुँचाई

सत्कार 184.1

### पहेली

पहेली 333.13 ⇌

प्रश्न 333 1

रहस्योक्ति 823.6

### पहेली (दे.)

भ्रामक मार्ग 1063.5

### पहेली पूछना

बुझावल करना 333.21

### पहेली बुझाना

बुझावल करना 333.21

### पहेली बुझना

पहेली बुझना 334.11 ⇌

### पहेली संकेत

पहेली संकेत 333.18 ⇌

### पहेली समाधान

बुझ 334.7

### पहेली हल

बुझ 334.7

### पहेली हल करना

पहेली बुझना 334.11

### पौख

पंख 151.1

### पौखड़ी

पंखड़ी 938.26

पीखरी	पीजना	पांशुरिभा	मशीन पदाश्रय 596.22
पंखड़ी 938.26	झलाई करना 565.22	पांडुरता 289 15	पीब नीचे सिर ऊपर
पीखरी	पीजर	पांडु रोग	ऊर्ध्वमुखता 1023 17
पंखड़ी 938.26	पसली पजर 133 13	पीलिया 163.37	पीब पीब
पुष्प पल्लव 115.7	बगल '47.5	पांडुलिपि	पैदल 1083 28
पींग	बाल गड़दा 147 6	आलेख 412.17	पीबपीस
नदी परित्यक्त भूमि 25.5	पींग्र	पांडुलिपि 412.29 ⇌	मल्लाह पदाश्रय 596 20
पांगुल	गाघ स्थल 984 6	मुद्रण पांडुलिपि 412.30	पीब भारी होना
लंगड़ा लूला 153.20	गाध्य 984.9	हस्तलिखित पुस्तक 446 2	गर्भवती होना 241.13
पीध	पींग्र स्थल	पांडु लोह	पीबरी
जनता 883 5	गाघ स्थल 984 6	चाँदी 95 3	सीढ़ी 613.6
पद्य 874 21	पांडर	पांडु शर्मिला	पांगु
पद्यायत 892.1	श्वेत वस्त्र 578 23	द्रौपदी 771 64	गोबर खाद 552 11
पाँच 948.25 ⇌	पांडव	पांडु संतति	धूलि 100 4
पीधः उपमान सूची	अर्जुन 771 36	पांडव 771 27	पांगु कालीस
पाँच उपमान सूची 948.26 ⇌	पाँच उपमान सूची 948 26	पांडे	क सीस 214 7
पांधजन्य	पांडव 771 27 ⇌	ब्राह्मण 731 13	पांगुल
अग्नि 106.1	युधिष्ठिर 771 80	रसोईदार 195 7	धूलिमय 100 24
कृष्ण शख 771 17	पांडव राज	पांडेय	मलिन 21/ 6
विष्णु शख 768 13	युधिष्ठिर 771 80	ब्राह्मण 731 13	लफंगा 811 8
शिय 767 1	पांडव सेनापति	पीत	व्यभिचारी 806 10
पांध दिवसीय क्रिकेट मैच	घुष्टघुम्न 771 66	तारतम्य 1049 3	पांगु लवण
फाइव-डे क्रिकेट 477 4	पीका	पंक्ति 691 4	समुद्री नमक 279 7
पीध देवता	मैसः कटड़ा 230 18	प्यू 745 25	सोभर नमक 279 8
पद्यदेव 772 32	पीडिधेरि	पांध	पांगुला
पीध पांडव	पीडिधेरि 28.50 ⇌	प्रवासी 618 29	रजस्वला 130 13
पंध पांडव 771 28	पीडिधेरि राजधानी 28 51	यात्री 1087 2	व्यभिचारिणी 806 11
पीध वर्ष	पीडिधेरिः राजधानी	वियोगी 388 8	पीस
पीध वर्ष 42.21 ⇌	पीडिधेरि राजधानी 28 51 ⇌	पांधशाला	खमीर 195 12
पीधवी [पीधवी]	पांडित्य	पांधशाला 1090 25 ⇌	गोबरः खाद 552 11
पीधवी [पीधवी] 948 91 ⇌	विद्वत्ता 319.1	रेस्ट हाउस 1090.27	पीसना
पीधवी वर्ण	पांडित्यपूर्ण	पांधास (ब. अमरीका)	भूमि उर्वर करना 552.15
पद्यम वर्ण 731.10	विद्वत्पूर्ण 319 7	वृक्षहीन मैदान 11.3	पीसा
पीधवी सवार	पांडित्यहीनता	पीयथा	पासा 479 21
पद्यम आरोही 1082 4	अविद्वत्ता 320.1	पार्यथा 586.22	पा
पीध व्यक्ति	पांडु	पीव	पद्यम स्वर 459.11
पजतन 791.16	अर्जुन पिता 771 37	आधार सूची 596 2	पैर 149.12
पीधः समुदाय	पांडु 771 71 ⇌	इंद्रिय सूची 268 2	पाईट
पीधः समुदाय 687 7 ⇌	पांडुर 289 53	एक पद 1083 2	पाईट 102.11 ⇌
पीध सी (कहीं कहीं)	पीला 289 54	घरण 150.9	पाईट (अं)
धर सी अस्सी प्लग्न समुय 687.22	पांडुक	टॉग 149.15	पाईट 102 11
पीध स्वर राग	क्राश्रता 126.52	पैर 149 12	पिट 959.52
ओडव राग 457 15	पांडु नंदन	मूल 112.10	बिंदु 968 1
पीधा	अर्जुन 771.36	साष्टांग दंडवत. अंग सूची 1080 9	पाइका (अं)
मत्स्य आखेटः कौटा 252 17	पांडु नाग	पीव उच्छङ्कना	12 पाईट 413.20
पांधार्थिक	सक्रंद हाथी 127 40	प्रतिरोध असफल होना 915.6	पाइट
शैव संप्रदायः सदस्य 737.54	पांडुः पत्नी सूची	पीब ऊपर सिर नीचे	पाइ 599.30
पांधाल	पांडुः पत्नी सूची 771.72 ⇌	अधोमुखता 1023 18	पाइप
दुपद 771.62	पांडुपुत्र	पीब की धूल	पाइप 597.22 ⇌
पांधालिका	पंध पांडव 771.28	नगण्य व्यक्ति 853.4	पाइप (अं)
पुतली 406.6	पांडुर	पीबका	नली 19.29
पांधाली	पांडु 771 71	पीबका 593.55 ⇌	पाइप 597 22
द्रौपदी 771.64	पांडुर 289.53 ⇌	रेड कार्पेट 1059.15	पानी. नल 19.27
पुतली 406.6	विवर्ण 291.18	पीबकी	पीपा 959.53
पांधेन लामा	सक्रंद दाग 165 13	खक्राऊँ 588 11	पाइप ऑर्गेन (अं)
पंधेन लामा 744.43	पांडुरता	जूता 588.14	अरगान बाजा 461.21
पीध	पांडुरता 289.15 ⇌	पीबदान	पाइपिंग (अं)
पंधनी 44.11	विवर्णता 289.23	पायदान 596.16	गोट 571.35

## पाइराइट (दे.)

पाइराइट (दे.)	पाक कला	बटुआ 672.9	पाखंडहीनता
मासिक धातु 92.9	पाक कला 195.3 ⇌	पाकिट (ऐडिशन) (अं)	पाखंडहीनता 822.12 ⇌
पाइरेट (अं)	पाकट	जेबी 672.11	पाखंडी
समुद्री बटमार 884.36	जेब 672.1	पाकिटमार	कपटपूर्ण सरल 818.6
पाइलट (अं)	पाकदामन	जेबकट 864.14	धर्म पाखंडी 825.4
अप्रगामी मार्ग प्रदर्शक 1098.5	धर्मशील 735.13	पाकिट बाब (अं)	पाखंडी धर्मशीलता
नीकायन पाइलट 1080.27	सच्चरित्र 810.5	जेब घड़ी 50.23	धर्म पाखंड 825.3
विमान चालक 1081.2	पाकदामनी	पाकिम	पाखंडी साधु
पाइलटिंग करना	पतिव्रत 805.4	पक्व (वनस्पति) 118.19	नरूली साधु 790.18
विमान चलाना 1081.44	गापहीनता 813.1	परिपाचित 195.65	पाख
पाइलटेंज (अं)	सच्छरित्रता 810.2	पाकिस्तान	मास. पक्ष 45.1
ससंपर्क उड़ान 1081.13	पाकविज्ञ	झंडस सदस्य सूची 27.4	मुख्य दीवार 607.2
पाइलन (अं)	सदाशय 817.10	पाकिस्तान 27.19 ⇌	पाखान
मार्कर 1074.28	पाकदिज्ञी	नस्त उपमहाद्वीप देश क्षेत्र सूची 27.6	पाषाण 99.1
पाइबट (अं)	सदाशयता 817.4	पाकिस्तान: राजधानी	पाखाना
अज्ञात 1077.13	पाकनीयत्व	पाकिस्तान: राजधानी 27.20 ⇌	विष्ठा 216.2
पाई	सदाशय 817.10	पाकिस्तानवाद	शीघ्रालय 216.18
निम्नत 983.6	पाकनीयली	इस्लामवाद 884.24	पाखी
पाई	सदाशयता 817.4	पाकिस्तानी	पक्षी 126.1
आमूषण मंजूषा 676.6	पाक परवर दिगार	पाकिस्तानी 27.31 ⇌	पाखी दीवार
पाई 629.17 ⇌	अत्लाह 764.12	पाकी	मुख्य दीवार 607.2
प्रालंबन सूची 1024.5	पाक पुटी	पाकिस्तानी 27.31	पाग
पाई (I)	कुम्हार. भट्टी 109.12	पाकीज़: [पाकीज़ा]	अवलेह 176.12
पूर्ण विराम 425.32	पाकबाज़	पापहीन 813.9	घाशनी 280.5
पाई (पुराने रूप में)	सज्जन 817.7	पाकीज़गी	पगड़ी 584.13
एक सी बयानवेदी भाग 949.26	पाक भांड	पापहीनता 813.1	पगाई 280.3
पाई: 3	पाक भांड 682.1 ⇌	स्वच्छता 218.1	पागव्य 280.4
पैसा 829.18	पाक भांड सूची	पाकेट बुक	पागना
पाउंड (अं)	पाक भांड सूची 682.2 ⇌	पाकेट बुक 446.3 ⇌	पागना 280.29 ⇌
पाउंड 829.19	पाकर फल	पाकेट बुक (अं)	लीपना 292.11
पाउच (अं)	गोदा 190.17	पाकेट बुक 446.3	पागल
खीसा 672.5	पाकरवी	पाकेट मारना	उन्मत्त 354.22
पाउच (अं)	सच्चरित्रता 810.2	जेब काटना 864.45	पागल 354.24 ⇌
पैक. प्रकार सूची 1014.3	पाकल	पाकेटमारी	पागल व्यक्ति 354.15
पाउच (अं)	पक्व (वनस्पति) 118.19	जेबकटाई 864.13	मूर्ख 302.7
बटुआ 672.9	पाक विद्या	पाकेट साइज़ (अं)	पागल [पगली]
सिगरेट धैली 676.7	पाक कला 195.3	हैडी साइज़ 961.11	प्रेमासक्त 368.21
पाक	पाक विधि	पाक्ष	पागल कुत्ता
अनासक्त 366.5	पाक विधि 195.4 ⇌	पाक्षिक 45.5	पागल कुत्ता 127.73 ⇌
अपराध मुक्त 869.9	पाकशाला	पाक्षिक	पागल कुत्ते का काटा
इंद्रिय निग्रही 364.13	रसोई घर 195.1	पाक्षिक 45.5 ⇌	श्वानोन्माद 354.13
दैत्य सूची 783.19	पाकशाला: अध्यक्ष	पाक्षिक 71.18 ⇌	पागलखाना
परिपाचन 195.19	रसोई: अध्यक्ष 195.9	पाखंड	पागलखाना 354.17 ⇌
परिपूर्ण 313.14	पाकशासनि	कपटपूर्ण सरलता 818.2	पागलपन
पाकिस्तान 27.19	जयंत 773.29	धर्म कर्म: आडंबर 747.2	पागलपन 354.14 ⇌
पाकिस्तानी 27.31	पाक शैली	धर्म पाखंड 825.3	मूर्खता 302.1
पापहीन 813.9	पाक शैली 195.5 ⇌	पाखंड 825.2 ⇌	सनक 353.10
पुण्य कर्ता 814.5	पाक स्थली	पाखंड (दे.)	पागल व्यक्ति
बरफ़ी 203.27	उदर 148.6	छल 827.7	पागल व्यक्ति 354.15 ⇌
मुरब्बा 201.10	पाक स्थान	पाखंड अनावृत होना	पागल होना
संयमी 808.17	घुल्ला चौका 195.2	पाखंड अनावृत होना 822.19 ⇌	पागल होना 354.21 ⇌
स्वच्छ 218.33	पाकगार	पाखंडपूर्ण	पागव्य
पाक कर्म	रसोई घर 195.1	पाखंडपूर्ण 825.6 ⇌	पागव्य 280.4 ⇌
रसोई कर्म 195.6	पाकगारि	पाखंड कंबी	पागुर
पाक कर्मिणी	इंद्र 773.5	छली 827.24	जुगाली 181.19
रसोईदारिन 195.8	पाकिट (अं)	धर्म पाखंडी 825.4	पाचक
पाक कर्मी	जेब 672.1	पाखंडहीन	पाचकता बर्धक 178.9
रसोईदार 195.7	नगर खंड 819.5	पाखंडहीन 822.31 ⇌	



पाचक आनुयुक्त ऐनजाइन 179.7	पाजी अधम 840.4	रेशमी 568 17	पाठशाला शिक्षालय 321.9
पाचक ग्रंथि अग्न्याशय 132.9	दुर्जन 818.5	पाटहिक नगाडा वादक 461.59	शिक्षालय सूची 321 11
पाचकता कर्षक पाचकता कर्षक 178.9 ⇨	पैदल सैनिक 934.7	पाटा कुटाई 220 12	पाठांतर मूल पाठ भेद 412.33
पाचकता कर्षन पाचकता कर्षन 178.4 ⇨	पाजीपिन अधमता 840 1	घकला 560 4	पाठा नवयुवक 231 2
पाचक रस पाचव्य 129.7	पाजीपना अधमता 840 1	परदा दीवार 807.5	पाठा [पाठी] बलिष्ठ 160 10
पाचकिन (घ) पैपसिन 179.8	पाजीपना दुर्जनता 818.1	पीडा 595.19	पाठी अध्यता 321.51
पाचन घयापाचय 178.1	पाजेब पाजेब 228 18 ⇨	सिरहाना पाटी 594 19	कथा वाचक 749 19
परिपाचन 195.19	पाटंबर रेशमी वस्त्र 579 10	पाटाफेर पटाफेर 800 21	धर्म पाठी 749 11
पाचन 178.3 ⇨	पाट क्लब प्लेट 1078.15	पाटिया पटिया 990 7	नवयुवती 231.3
रसोई कर्म 195.6	चक्की पाट 560 15	पाटी खाट पाटी 594.18	वाद्ययिता 399 9
पाचनक सुहागा 281.33	घतुर्जुज पाषाण पटल 990 20	घतुर्जुज पाषाण पटल 990 20	पाठीन पाठीन 125 7 ⇨
पाचन क्रिया पाचन 178 3	घोडाई 965 4	झूला पटरी 1034.6	पाठ्य पठनीय 400 14
पाचन पात्र पाक भांड 682 1	नदी पाट 25 12	तख्ती 415.3	पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम 322 1 ⇨
पाचन शक्ति पाचन शक्ति 178.2 ⇨	पटिया 990 7	परपरा 795 1	पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक 322.2 ⇨
पाचनिका पाचन 178 3	बटा रेशम 568 14	लट 225 15	पाठ्य विषय पाठ्य विषय 322 4 ⇨
पाचनी हड 281.37	वस्त्र 579 1	पाटी गणित अक गणित 953 1	पाठ आखेट मच 252 23
पाचनीय पाच्य 178 6	विस्तार 981 2	पाटी पत्थर स्तर शैल 99 13	किनारी 571 34
पाद्ययिता रसोईदार 195 7	सन 568 2	पाटीर चदन 274 20	कृषि रक्षण मधान 550 4
पाद्य पाद्य 129.7 ⇨	सन कपडा 579 12	पाठ अध्याय 447 2	पाइ 599 30 ⇨
पाथिका रसोईदारिन 195 8	पाटण नगर 620 10	धर्म पाठ 149 10	फौसी तख्ता 871.12
पाथिन (घ) पैपसिन 179 8	बंदरगाह 1069 8	पाठ 412.31 ⇨	पाका क्षेत्र 34.1
पाथ्य पाथ्य 178.6 ⇨	पाटन गडदा भराई 986.4	शिखा 321 1	खंड 938.1
सुपाथ्य 178.8	छत 611 11	शिखा पाठ 322 5	धारा पशु 252 8
पाठ धीरा 174.4	टॉड 612 4	सीख 332 6	पाजा 200 26 ⇨
टीका औषध 176.29	पटाव 600 3	पाठक अध्यता 321 51	मैस कटका 230 18
रुधिर मोचन 174 6	पाठना भराई करना 1004 8	कथा वाचक 749 19	महत्त्वा 619 6
पाठना धीरा लगाना 174.22	संराशित करना 867 10	छात्र 323 26	पाकी मैस कटकी 230.19
कृष निर्यातन करना 83.13	समतल करना 986.8	धर्म पाठी 749 11	पाइ किनारी 571.34
पाठी अनुचरतः 886.27	पाटल उपवन पुष्प सूची 14 2	पठन कर्ता 321 53	पाइना नौका धारा में डालना 1080.32
धीरा लगाने वाला 174.5	गुलाब 14 13	पाठक 399.5 ⇨	पाडी घाट नौका 1072.26
पाठी 83.10 ⇨	लाल 289.60	वाद्ययिता 399 9	धारानुकूल नौकायन 1080.2
पाठे परचतः 995.18	पाटलक लाल पीला 289.77	पाठक [पाठिका] पाठक 399.5	पाण प्रतिज्ञा 339.17
पीछे पीछे 1096.15	पाटला दुर्गा 778.7	पाठ कर्म सस्वर वाचन 399 8	पाणि पाणि 150.1 ⇨
पाजम्रा पाजामा 586.7 ⇨	पटरा 595.14	पाठन सस्वर वाचन 399.8	पाणि पेट 150.2
	पाटली झूला पटरी 1034.6	पाठनालय वाचनालय 669.15	पाणिगृहीता विवाहिता 799.65
	बटरी 596.16	शूठ पकाना दंड देना 870 16	पाणिग्रह विवाह 799 1
	बटनीपत्र नाणिक 96.22	वाठ बैठाना धर्म पाठ करवानः 749.41	पाणिग्रहण पाणिग्रहण 800.22 ⇨
	पाटव प्रवीणता 303.8	पाठ भेद मूल पाठ भेद 412.33	
	पाटविक दौबबाज 819.19	पाठलगा (भराठी) पीछा 1096.3	
	पाटवी दुबराज 882.22		

## पाणिग्रहणीय

विवाह 799.1	पटकन 1062.20	तराचू डंडा 962.21	जूता 588.14
विवाहन 799.8	पातयिता	पात्रः प्रवेश	पादत्राण 588.9 ⇌
पाणिग्रहणीय	पतन कर्ता 1031.26	मंच प्रवेश 468.26	पादत्राणः एक पैर
वैदाहिक 799.59	पाताल	पात्र भूमिका	पादत्राणः एक पैर 588.10 ⇌
पाणिघात	पत्तल 885.4	पात्र भूमिका 467.2 ⇌	पादप
घूंसाघूसी 905.20	पाता	पात्र शुद्धि	पीघा 111.14
बीक्सर 486.6	आदाता 637.7	बरतन मैजाई 218.9	वनस्पति 111.1
पाणि चिह्न	प्राप्ता 637.9	पात्र संस्कार	वृक्ष 111.18
हस्त चिह्न 261.37	पाताबा	बरतन मैजाई 218.9	पादपजात
पाणि तल	जूता. पाताबा 588.35	पात्री	वनस्पति जगत 121.2
पाणि पेट 150.2	पाताल	कटोरी 883.6	पादपाशी
पाणिनी	अपकाष्ठा 535.3	दुर्गा 776.7	बेड़ी 866.25
ऋषि मुनि सूची 789.17	नाग निवास 778.15	बरतन 880.1	पादपाशम
पाणि पल्लव	निम्नता: उपमान सूची 983.7	पात्रोपकरण	पादपाशम 77.4 ⇌
अंजलि पात्र 150.3	पाताल 258.9 ⇌	पात्र आभूषण 464.37	पादपीठ
पाणि पात्र	भूगर्भ 9.6	पात्र	पायदान 596.16
अजलि पात्र 150.3	सात पाताल सूची 258.8	जल 88.1	पैर चौकी 596.17
पाणि पाद	पाताल गंगा	पथाई 545.11	पाद प्रणाम
हाथ पैर 149.1	तीन गंगा सूची 20.11	मार्ग 1063.1	साष्टांग दंडवत 1060.8
पाणि पृष्ठ	पाताल तोंड	संस्कृत 1063.33	पाद प्रदेश
पाणि पृष्ठ 150.8 ⇌	पाताल तोंड 958.22 ⇌	पाथना	निम्न भाग 983.3
पाणि पेट	पाताल दिशा	थपकना 296.25	पाद भाग
पाणि पेट 150.2 ⇌	निम्न दिशा 983.2	थपाई करना 545.24	निम्न भाग 983.3
पाणि: फैलाव	पाताल निवासी	पाथने बाला	पादमूल
बालिश्त 150.5	दानव 783.11	पथैया 545.12	एकी 149.18
पाणिबंध	पाताल लोक	पाथर	पादरी
विवाह 799.1	पाताल 258.9	पाषाण 99.1	ईशई कर्षिकरी सफ्टि सख्य 744.28
पाणिमुख	पातालवासी	पाथा /	धर्म ग्रंथज्ञ 738.2
पितृ 253.26	दैत्य 783.17	आयतन मापी पात्र सूची 959.58	धर्म दीक्षक 742.26
पाणि मूल	पातालीका	निष्कर्षक 83.15	पादरी 744.29 ⇌
कलाई 149.10	दानव 783.11	हल: अंकुकी 563.9	पादरी (अं)
पाणिरुह	नाग 778.12	पाथेय	पादरी 744.29
नख 150.24	पातित्य	यात्रा आहार 199.6	पाद बंदन
पाणि वाद्य	जाति निर्वासन 870.11	यात्रा व्यय 1087.14	घरण स्पर्श 1060.2
पाणि वाद्य 461.19 ⇌	पातिव्रत्य	पाद	पादशाह
पातंगी	पतिव्रत 805.4	अपान वायु 245.15	सम्राट 882.24
कर्ण 771.47	पाती	काव्य पदांश सूची 452.48	पादशाही
पात	पात्र 444.1	घतुर्धाश 949.20	राजतंत्रवाद 884.10
पत्तर 990.23	पात्र	घरण 150.9	राजतंत्रात्मक 881.39
पल्लव 115.1	अधिकार भागी 897.16	तलहटी 16.13	पाद सेवन
पस्ती 169.6	आयतन मापी पात्र 959.57	निम्नता: उपमान सूची 983.7	नवधा भक्ति सूची 752.8
विमान अवरोहण 1081.25	घका 679.1	पैर 149.12	पाद सेवा
शाक 111.9	चरित्र पात्र 467.1	मूल 112.10	घरण स्पर्श 1060.2
स्राव 1032.1	डिब्बा 676.1	पादक्षेप	पाद स्तंभ
पातक	धातु बरतन 880.12	पदन्यास 1083.3	आधार स्तंभ 607.8
अपराध 861.1	बरतन 680.1	पादचतुर	पादहत
पतन कर्ता 1031.26	भोजन बरतन 880.17	नर बकरी 127.23	पद प्रहारित 918.38
पाप 812.1	योग्य 303.14	पाद चत्वर	पादांक
पातकता	सुपात्र 303.15	पीपल 13.14	पदधिह्न 867.4
दुरधरित्रता 811.1	पात्र आभूषण	पादघारी	पादांगद
पातकी	पात्र आभूषण 464.37 ⇌	पदघर 1083.25	घुंघरू 461.35
अपराधी 861.14	पात्रता	पैदल सैनिक 934.7	पादांबु
दुर्जन 818.5	योग्यता 303.1	पाद जंघा पिंडली ऊरु कटि चेट्टा	पाद्य 750.6
पापी 812.12	सुपात्रता 303.2	घारी 464.23	पादांभ
पात गोभी	पात्र दुष्तरस दोष	पाद टिप्पणी	पाद्य 750.6
पात गोभी 189.16 ⇌	काव्य दोष सूची 453.6	पाद टिप्पणी 427.9 ⇌	पादातिक
पातन	पात्रपाल	पादत्राण	पैदल सैनिक 934.7
अवपातन 1031.3	कर्ण 1073.2	खुरत्राण 555.29	

पादारथिद  
धरण कमल 158.10  
पाथार्थिक  
तत्त्वीय 78.24  
पादावसेधन  
पद प्रक्षालन 1059 18  
पादासन  
पैर चौकी 596 17  
पादुका  
खड़ाऊँ 588.11  
पादत्राण 588 9  
विष्णुपद मूर्ति 746.8  
पादुका कार  
धर्म कर्मी 582 3  
पादोदक  
धरणाभूत 750 8  
पाद्य 750 6  
पाद्यसिक्त  
ऋमीय 991 20  
पाद्यं  
पद प्रक्षालन 1059 18  
पाद्य  
पद प्रक्षालन 1059 18  
पदीय 149 20  
पाद्य 750 6 ⇨  
पाद्याध्यं  
तुच्छ उपहार 640.3  
पाधा  
उपाध्याय 323 12  
धर्म शिक्षक 742 21  
महा विद्वान् 319 3  
पान  
जल 88.1  
ताश रग सूधी 479 18  
धार 270 7  
पान कर्म 207 1  
पान पत्ता 213 17  
पान पात्र 684.1  
पान बीड़ा 213.18  
पेय पदार्थ 208.1  
मद्यपान 209 21  
पान (दे.)  
अंतर्ग्रहण 1002 5  
पान उठाना  
सुनीती स्वीकारना 917 9  
प्रतिज्ञा करना 339.29  
पानक  
पना 208.16  
पानक रस शगासब योजन  
सॉसठ कला सूधी 397.4  
पान कर्ता  
आपान कर्ता 207.20  
पान कर्म  
पान कर्म 207.1 ⇨  
पान खिलाना  
बागदान करना 799.55  
पान: खेत  
पान: खेत 551.8 ⇨

पान गोष्ठी  
मद्यपान गोष्ठी 209 23  
पान: डब्बा  
पानदान 213 28  
पान तंबाकू  
पान तंबाकू 213 16 ⇨  
पान तंबूल  
पान तंबाकू 213.16  
पानदान  
पानदान 213.28 ⇨  
पान पत्ता  
पान पत्ता 213 17 ⇨  
पान बीड़ा 213.18  
पान पत्ती  
पान तंबाकू 213 16  
पान पात्र  
पान पात्र 684.1 ⇨  
मद्यपान पात्र 209.38  
पान: पीक  
पान पीक 215 23 ⇨  
पान फूल  
तुच्छ उपहार 640 3  
पत्र पुष्पं 750 10  
पान बीड़ा  
पान बीड़ा 213 18 ⇨  
पान भांड  
मद्यपान पात्र 209 38  
पान मसाला  
पान मसाला 213 19 ⇨  
पान मसाला सूधी  
पान मसाला सूधी 213.20 ⇨  
पान मूल  
पान मूल 112.16 ⇨  
पान रकाबी  
पान रकाबी 685.7 ⇨  
पान: लाली  
पान लाली 213 23 ⇨  
पानवाणी  
पान खेत 551 8  
पान बाला  
पानवाड़ी 213 24  
पान वाली  
पानवाकिन 213 25  
पान चुपारी  
पत्रं पुष्पं 750.10  
पान चुपारी भेजना  
निर्मंत्रण भेजना 1056 6  
पाना  
अंदर लेना 1002 15  
अनुभूति होना 263.7  
अजित करना 648.4  
आदान करना 837.3  
आदेय 634.31  
खोजा जाना 863.5  
भोगना 363.9  
भोजन करना 181.32  
लाभ कमाना 646.11  
समकक्ष पहुँचाना 1095.9

स्पेनर 559 38  
पाना खोना  
लाभ हानि 646 1  
पानासक्त  
मद्यासक्त 209 44  
पानासक्ति  
मद्यपता 209 26  
पानी  
उच्च कुलीनता 728 3  
कथलोहू 167 15  
जल 88 1  
जलराशि 18 1  
जलराशि गहराई 984.2  
जलवायु 51 1  
जलीय धरातल 25 2  
धार 270 7  
धोवन 526 6  
प्रतिष्ठा 849.2  
मुलम्मा 292 8  
रत्न आभा 98 3  
रस 84 3  
रूप लावण्य 157 5  
लज्जा 845 1  
वर्षा 54 5  
वीरता 396 1  
वृक्ष निर्यास 84 8  
साहस 394 1  
स्यामिमान 858 3  
पानी उठाना  
शुष्क करना 89 6  
पानी उतरना  
धुँधलाना 286 13  
पानी उतारना  
अपः नित करना 855 6  
पानी का जहाज़  
समुद्र पोत 1072 40  
पानी काटना  
नीकायन करना 1080 31  
पानी ठेलना 483 26  
पानी का बुलबुला  
अल्प कालीनता उक्ति सूधी 38 9  
पानी की सवारी  
जलयान 1072.1  
पानी: कुआँ  
कूप 19 3  
पानी खड़ा होना  
जल प्रवाह न होना 21.31  
पानी खिंचाई  
जल उद्वहन 19 22  
पानी गाड़ी  
तरल भार यान 1071 4  
पानीघर  
जल यंत्रालय 19 2  
प्याऊ 207.11  
पानी घाट  
पनघट 19 9  
पानी ठेलना  
पानी ठेलना 483.26 ⇨

पानी डालना  
आग बुझाना 108 12  
तराई करना 88 21  
पानी तोड़ना  
पनबुझी ऊपर आना 1080 39  
पानीदार  
आभायुक्त (रत्न) 98 11  
आर्द्र 88 27  
जलयुक्त 88 23  
दीप्त 287 34  
स्यामिमानी 858 11  
पानी देना  
तर्पण , करना 253.34  
सिधन करना 548 38  
पानीदेवा  
तर्पण कर्ता 253 42  
पानी: नल  
पानी नल 19.27 ⇨  
पानी पिलाई  
जल प्रदान 207 10  
पानीफल  
सिधाड़ा 190.35  
पानी फिरना  
नष्ट होना 531 4  
हताश होना 376.4  
पानी बहना  
जल प्रवाह होना 21 30  
पानी में उतराई  
जल अवतारण 1080 9  
पानी में उतारना  
जलावतारण करना 1080 37  
पानीय  
पेय पदार्थ 208 1  
पानी लगा  
सिंचित 548 55  
पानी लगाना  
सिंचन करना 548.38  
पानी होना  
द्रवित होना 80 4  
पाने की इच्छा होना  
लालसा होना 359 13  
पानेच्छा  
तृषा 180 5  
पानेच्छुक  
तृषित 180 19  
पाने बाला  
प्रतिलब्धा 863 9  
प्राप्ता 637 9  
पानोत्सव  
मद्यपान उत्सव 209 22  
पाप  
पाप 812.1 ⇨  
विवाह अनिच्छा 806 1  
पाप करना  
पाप करना 812 8 ⇨  
पाप कर्म  
पाप 812.1

## पाप कष्ट

**पाप कष्ट**  
 पाप कष्ट 260.12 ⇨  
**पाप क्षय**  
 पाप नाश 813.2  
**पाप ग्रह**  
 अशुभ ग्रह 261.16  
**पापघ्न**  
 पाप नाशक 813.11  
**पापघ्नी**  
 तुलसी 13.9  
**पापघरी**  
 पापिनी 812.13  
**पापघेता**  
 दुराशय 818.9  
**पापज**  
 जारज 716.18  
**पापङ्ग**  
 पापङ्ग 192.18 ⇨  
**पापङ्ग बेलना**  
 अति परिश्रम करना 493.7  
**पापञ्जी**  
 गोलगप्पा 200.12  
**पाप दंड**  
 पाप कष्ट 260.12  
**पापघ्नी**  
 दुर्जन 818.5  
**पापनष्ट**  
 पापनष्ट 813.10 ⇨  
**पाप नाश**  
 पाप नाश 813.2 ⇨  
**पाप नाशक**  
 पाप नाशक 813.11 ⇨  
**पापनाशन**  
 पाप नाशक 813.11  
**पापनाशिनी**  
 पचकन्या 774.17  
**पापनाशी [पापनाशिनी]**  
 पाप नाशक 813.11  
**पाप पुण्य**  
 विपरीतता उपमान सूची 310.13  
**पाप पुण्य लेखाकार**  
 धित्रगुप्त 256.6  
**पापपूर्ण**  
 पापपूर्ण 812.11 ⇨  
**पाप प्रायश्चित्त**  
 पाप प्रायश्चित्त 813.4 ⇨  
**पाप बोध**  
 पाप बोध 813.3 ⇨  
**पापमुक्त**  
 पापनष्ट 813.10  
**पाप मोचन**  
 पाप नाश 813.2  
**पाप मोचनी**  
 गंगा नदी 20.10  
**पापलिन**  
 पापलीन 580.31  
**पापलीन**  
 पापलीन 580.31 ⇨

**पाप शोधन**  
 पाप नाश 813.2  
**पापहर**  
 पाप नाशक 813.11  
**पाप हरण**  
 पाप नाश 813.2  
**पापहा**  
 पाप नाशक 813.11  
 शिव 767.1  
**पापहारी [पापहारिणी]**  
 पाप नाशक 813.11  
**पापहीन**  
 पापहीन 813.9 ⇨  
**पापहीनता**  
 पापहीनता 813.1 ⇨  
**पापांगीकरण**  
 कनफेशन 751.19  
**पापा (अँ)**  
 पिता 717.4  
 पोप 744.33  
**पापाधार**  
 दुरचरित्रता 811.1  
 पाप 812.1  
**पापाधारी**  
 पापी 812.12  
**पापात्मा**  
 दुराशय 818.9  
 पापी 812.12  
**पापाधम**  
 महापापी 812.14  
**पापाहि**  
 सर्प 123.10  
**पापिन**  
 व्यभिचारिणी 806.11  
**पापिनी**  
 पापिनी 812.13 ⇨  
 व्यभिचारिणी 806.11  
**पापिष्ठ**  
 पापी 812.12  
 महापापी 812.14  
**पापिष्ठा**  
 पापिनी 812.13  
**पापी**  
 अपराधी 861.14  
 कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369.8  
 दुर्जन 818.5  
 दुरचरित्र 811.5  
 निर्दय 835.10  
 पापी 812.12 ⇨  
 व्यभिचारी 806.10  
**पापोरा**  
 पापोरा 593.56 ⇨  
**पाप्मा**  
 पापी 812.12  
**पाप्यादा**  
 पैदल 1083.28  
**पाप्यद**  
 अविचल 500.15

दोहन रस्सी 555.19  
 नियम पालक 879.20  
 निष्ठावान 826.9  
 संयमी 808.17  
**पाबंदी**  
 नियम पालन 879.7  
 निषेध 880.1  
 निष्ठा निर्वाह 826.2  
 वैश्यकता 339.8  
 शर्त 339.11  
 समय 808.8  
 समय पालन 61.2  
**पाबोसी**  
 धरण चुबन 1060.3  
**पाब (अँ)**  
 ताड़ 13.8  
**पाबटीप**  
 पाबटीप 951.5 ⇨  
**पाबर**  
 दुर्जन 818.5  
 पापी 812.12  
**पाबरद**  
 वीर 396.6  
**पामाल**  
 पददलित 911.16  
**पामाली**  
 पददलन 911.5  
**पामिस्ट (अँ)**  
 हस्तरेखाविद 261.48  
**पामिस्ट्री (अँ)**  
 हस्तरेखा शास्त्र 261.40  
**पायै**  
 पैर 149.12  
**पायैथा**  
 खुडुडी 216.21  
 पायैथा 586.22 ⇨  
**पायैथा: गोलाई**  
 मोहरी 586.23  
**पायैत**  
 अदवान 570.10  
 पैताना 594.21  
**पायैता**  
 पैताना 594.21  
**पायैती**  
 पैताना 594.21  
**पायैदाज़**  
 पापोरा 593.56  
**पायक**  
 दूत 443.9  
 परिचारक 651.28  
 पैदल सैनिक 934.7  
**पाबधी**  
 मोहरी 586.23  
**पाबजामा**  
 पाजामा 586.7  
**पायका**  
 घुड़सवार: पदाश्रय 596.19

**पायताना**  
 पैताना 594.21  
**पायताबा**  
 जूता: पाताबा 588.35  
 पायताबा 588.8 ⇨  
**पायदान**  
 पायदान 593.57 ⇨  
 पायदान 596.16 ⇨  
 पैड़ी 613.3  
 सीढ़ी: डंडा 613.9  
**पायदार**  
 अविचल 500.15  
 दीर्घ कालीन 37.10  
 सुदृढ़ 160.15  
**पायना**  
 सान धरना 564.12  
 सिंघन करना 548.38  
**पायपोरा**  
 पापोरा 593.56  
**पायबोसी**  
 धरण चुबन 1060.3  
**पायमाली**  
 पददलन 911.5  
**पायर**  
 पायर 1069.14 ⇨  
**पायर (अँ)**  
 पायर 1069.14  
**पायरा**  
 घुड़सवार पदाश्रय 596.19  
**पायल**  
 घुंघरू 461.35  
 पाज़ेब 228.18  
**पायलट कक्ष**  
 कोकपिट 1074.20  
**पायस**  
 अमृत 177.1  
 इमल्शन 290.12  
 खीर 203.4  
 गंधा बिरोजा 1012.10  
 तारपीन 290.24  
 दुग्धीय 193.17  
**पाया**  
 आधार 596.1  
 आधार सूची 596.2  
 आधार स्तंभ 807.8  
 निम्नता: उपमान सूची 983.7  
 पाया 596.15 ⇨  
 पैड़ी 613.3  
 सीढ़ी: डंडा 613.9  
**काक [काँ]**  
 प्रकृतिलब्ध 863.8  
 शिक्षाभित्त 321.49  
**काका: गोलै पकिया**  
 कास्टर पकिया 1077.3  
**काका जन्म**  
 उपलब्ध होना 943.5  
 खोपा जाना 863.5  
 वर्तमान होना 68.2

पायाब  
गाध्य 984.9  
पाथिक  
धावक संदेश वाहक 443.4  
-पायी (जैसे: स्तनपायी)  
आपान कर्ता 207 20  
पाय्य  
आयतन माप 959 44  
पारंगत  
पारगत 1097 15  
प्रवीण 303.22  
महा विद्वान 319 3  
विशेषज्ञ 305.36  
पारंगतता  
प्रवीणता 303.8  
पारंगमन  
पार गमन 1097.1  
पारंपरिक  
पारंपरिक 795.13 ⇨  
फ़ैशनहीन 222 20  
यथापूर्व 533.13  
पारंपरिक चित्र  
लोक चित्र 404.9  
पारंपरिकतः  
पारंपरिकतः 795 17 ⇨  
पारंपरिकता  
पारंपरिकता 795.2 ⇨  
पारंपरिक देय  
नेग 640.7  
पारंपरीय  
पारंपरिक 795.13  
पार  
आरंपार 998.5  
उस पार 998.7  
गाय स्थल 984.6  
छोर 1000.3  
दूरस्थ तट 25 14  
दूरी पर 32.10  
नितांत अंत 995 2  
बाहर 999.19  
पार उत्तरना  
मोक्ष प्राप्त होना 257.6  
पार उत्तरना  
पार उत्तरना 1097.11 ⇨  
पार उत्तारक  
पार उत्तारक 1097.17 ⇨  
पार उत्तारण  
पार उत्तारण 1097.4 ⇨  
पारक  
पार उत्तारक 1097.17  
पार करना  
घोपना 270.14  
पार जाना 1097.9  
पार का  
सीमांतरीय 1001.40  
पारकृत  
पारकृत 1097.14 ⇨

पारखी  
कला मर्मज्ञ 398 8  
कसौटीकार 566 8  
गुणज्ञ 305.34  
परीक्षक 322.15  
समीक्षक 398.5  
पारखी वृष्टि  
समीक्षकीय प्रतिभा 398 6  
पारखीपन  
गुणज्ञता 305 15  
समीक्षकीय प्रतिभा 398 6  
पारगत  
गीतम बुद्ध 793 1  
तीर्थकर 792 1  
पारगत 1097.15 ⇨  
पार गमन  
पार गमन 1097.1 ⇨  
समुद्र यात्रा 1087.17  
पार गमन अनुमति  
पार गमन अनुमति 1097.2 ⇨  
पार गमन मार्ग  
पारपथ 1064 12  
पारगम्य  
पारगम्य 1097.18 ⇨  
पारगम्यता  
पारगम्यता 1097.5 ⇨  
पारगामी  
पारगत 1097.15  
पारगित होना  
पराग आना 118 10  
पारथा  
कैटवाक 1065.4  
खड 938.1  
घज्जी 938 25  
परिधान 583.1  
फट्टा 990 8  
वस्त्र 579.1  
पारथा क्रोशी  
वस्त्र विक्रेता 576 21  
पारथा क्रोशी  
वस्त्र व्यापार 576.18  
पारथा बाफ  
कपड़ा बुनकर 576 5  
पार जाना  
पार जाना 1097.9 ⇨  
पारण  
उपवास अंत 748.10  
उपवास अंत भोजन 748.15  
कार्य समापन 522.2  
पार गमन 1097.1  
पारण 329.6 ⇨  
पार तरण 1097.3  
समुद्र यात्रा 1087.17  
पारण करना  
पारण करना 329.16 ⇨  
पारणा  
भोजन कर्म 181.4

पारणीय  
समाप्य 942.21  
पारत  
पारा 94 9  
पार तरण  
पार तरण 1097.3 ⇨  
पार तरना  
पार तरना 1097 10 ⇨  
पार तरित  
पार तरित 1097 16 ⇨  
पार तैराना  
पार उत्तरना 1097 11  
पारद  
पारा 94.9  
पारदर्शक  
पारदर्शी 282 23  
पारदर्शिता  
पारदर्शिता 282 13 ⇨  
पारदर्शी  
ट्रांसपेरेंसी 405.9  
पारदर्शी 282.23 ⇨  
पारदृश्यता  
पारदर्शिता 282 13  
पारदेशिक  
परदेशीय 34 19  
यात्री 1087 2  
पारदेश्य  
परदेशीय 34 19  
पारधी  
धनुषधारी 930 13  
पारना  
आप्रवेश देना 1002.14  
दलाई करना 565 23  
पतित करना 1031.16  
विद्याना 592 10  
सक्षम होना 487 14  
पारपत्र  
देश निर्माणमति पत्र 1092 8  
यात्रापत्र सूची 1087 37  
पारपथ  
पारपथ 1064.12 ⇨  
पार पाना  
सक्षम होना 487.14  
पार फेंकना: कर्म  
अतिक्रमण 1052 3  
पारमित  
उत्तम 313 13  
पारगत 1097.15  
महा विद्वान 319.3  
पारमिता  
उत्तमतमता 313.3  
पराकाष्ठा 534.3  
पारमेश्वर  
ईश्वरीय 784.35  
पारमेश्वर  
ब्रह्मा विषयक 786.17  
पारयिष्णु  
पार तरित 1097.16

पार लगना  
पार लगना 1080.38 ⇨  
पार लगाना  
पार उत्तरना 1097.11  
पार लगैया  
नाविक 1080 21  
पार उत्तारक 1097.17  
पारलगैया  
सकट मोचक ७10.10  
पारलीकिक  
परलौकिक 258 14  
पारशाय  
लोहा 93.7  
लीह 93.17  
पारस  
परोसा 183.25  
पारस मणि 96.19  
पारसक  
पारसक 959.30  
पारस पत्थर  
जादुई पत्थर 474 26  
पारस मणि 96 19  
पारस मणि  
जादुई पत्थर 474 26  
पारस मणि 96.19 ⇨  
पारसा  
धर्मशील 735.13  
पुण्य कर्ता 814.5  
सच्चरित्रा 810 6  
पारसाई  
धर्मशीलता 735.2  
पापहीनता 813.1  
सच्चरित्रता 810.2  
पारसाल  
परसाल 42.15  
पारसी  
पारसी 736.28 ⇨  
पारसी धर्मावलंबी 736.27  
पारसी थिएटर  
पारसी थिएटर 463.7 ⇨  
पारसी धर्म  
पारसी धर्म 736.26 ⇨  
पारसी धर्मग्रंथ  
ज़ेद अवेस्ता 739.18  
पारसी धर्माधिकारी  
पारसी धर्माधिकारी 744.37 ⇨  
पारसी धर्मावलंबी  
पारसी धर्मावलंबी 736.27 ⇨  
पारसी नया साल  
नौरोज 57.60  
पारसी पुरोहित  
दस्तूर 744.38  
पारसी मंदिर  
पारसी मंदिर 745.36 ⇨  
पारसी शैतान  
अहिर्निन 785.3  
पारसी श्मशान  
पारसी श्मशान 254.15 ⇨

## पारसैक

### पारसैक

पारसैक 959.30 ⇌

पारसैक (अँ)

पारसैक 959.30

### पारस्परिक

पारस्परिक 703.10 ⇌

### पारस्परिकता

परस्परता 703 1

### पार होना

आरपार होना 998 2

उत्तीर्ण होना 322 36

पार जाना 1097.9

### पारि

अध्याय 447 2

अष्टधातु सूची 93 6

पाङ्ग 200 26

पारा 94.9 ⇌

पारा 739 4 ⇌

पैराग्राफ 424 8

शिव वीर्य 767.4

### पारापार

समुद्र 24 1

### पारापारीण

पारगत 1097 15

### पारायण

अध्ययन 321 23

पठन 321.27

पार गमन 1097.1

### पारायणी

विद्यारण 330 5

सरस्वती 20 24

सरस्वती 775.8

### पारावत

कबूतर 126 16

पर्वत 16 3

फ़ाख़ता 126 52

### पारावताम्ब

घृष्टघृन्म 771.66

### पारावती

बिरहा 457 37

मादा कबूतर 126 17

### पारादार

समुद्र 24.1

### पाराहार

वेद व्यास 789.21

### पाराहारी

संन्यासी 790.11

### पाराहार्य

वेद व्यास 789 21

### पारा शोधन

पारा शोधन 219 5 ⇌

### पारिजात

पारिजात वृक्ष 13 30

शिव 767.1

हार सिंगार 13.27

### पारिजातक

पारिजात वृक्ष 13.30

### पारिजात वृक्ष

पारिजात वृक्ष 13.30 ⇌

स्वर्ग वृक्ष सूची 13.28

### पारिणायक

स्त्रीधन 623 4

### पारित

पारित 329.27 ⇌

### पारित न करना

पारित न करना 329 17 ⇌

### पारित प्रस्ताव

पारित प्रस्ताव 329.7 ⇌

### पारितोषिक

पुरस्कार 857.1

सतोषप्रद 360.20

### पारिधिक

परिधीय 972 16

### पारिपार्थक

पार्थ्वचर 696 18

### पारिपार्थिक

पार्थ्वचर 696.18

सहायक सूत्रधार 468 15

### पारिभद्र

घीङ्ग 13 7

देवदारु 13 10

मदार वृक्ष 13 31

### पारिभद्रक

नीम 13 12

### पारिभाषिक

पारिभाषिक 317.15 ⇌

### पारिवारिक

परिवारीय 726 12

पारिवारिक 726.13 ⇌

### पारिवारिक इकाई

एकक परिवार 726.5

### पारिवारिकता

पारिवारिकता 726.2 ⇌

स्वजन भावना 725.2

### पारिश्रमिक

पारिश्रमिक 643 8 ⇌

### पारिश्रमिक वास

भाङ्गा सेवक 651.2

### पारिश्रमिकहीन छुट्टी

खानाबंदी 902.17

### पारिश्रमिकहीन श्रम

बेगार श्रम 643.20

### पारिषद

परिषद विषयक 889.26

परिषद सदस्य 889 8

पार्थ्वचर 696.18

राजा. संगी 696.4

### पारिषदिक

परिषद विषयक 889 26

### पारिस्थितिक

अवसरीय 70 13

पारिस्थितिक 69.11 ⇌

### पारिहारिक

मालाकार 12.33

### पारी

पारी 70.9 ⇌

### पारीक्षित

जनमेजय 771.55

### पारीण

पारगत 1097 15

सीमांतरीय 1001 40

### पारीय

सीमांतरीय 1001 40

### पारी से

नियमिततः 71.23

### पारुष्य

आठ अवगुण सूची 761.13

उपेक्षा 185.2

### पारेवियों (झा)

हवाई डाक 444.24

### पार्क

पार्किंग स्थल 1069 34

### पार्क (अँ)

सार्वजनिक उपवन 12 16

### पार्किंग

पार्किंग 1069.33 ⇌

### पार्किंग (अँ)

पार्किंग 1069 33

### पार्किंग स्थल

पार्किंग स्थल 1069.34 ⇌

### पार्कमेंट (अँ)

धर्मपत्र 415.6

### पार्टटाइम (अँ)

अंशकालिक 650 19

### पार्टनर (अँ)

साझेदार 621.8

### पार्टनरशिप (अँ)

साझेदारी 621.7

### पार्टी (अँ)

पक्ष 885 3

राजनीतिक दल 885.15

सहभोज 183.4

### पार्टीबंदी

गुटबाज़ 885.10

### पार्टीबाज़

गुटबाज़ 885.39

### पार्टीरान (अँ)

देश विभाजन 699.5

### पार्थ

अर्जुन 771.36

भीम 771.76

युधिष्ठिर 771.80

राजा 882.6

### पार्थक्य

अभिभ्रम 1008.17

विदा 1058 1

वियोग 388.1

हटापन 32 3

### पार्थ चारथी

कृष्ण 771.1

### पार्थिव

इहलौकिक 258.13

नश्वर 38 7

पृथ्वीय 9.21

मिट्टी. शिवलिंग 746 16

शासक 890.5

### पार्थिव गंगा

तीन गंगा सूची 20.11

### पार्थिवता

नश्वरता 38 2

### पार्थिव लिंग

राजा चिह्न 408.12

### पार्थिव लोक

आवागमन चक्र 246.3

### पार्थिव बर्ष

परिक्रमा काल 5.4

### पार्थिव शरीर

शरीर 139.1

### पार्थिवी

लक्ष्मी 775 1

सीता 770.66

### पार्थी

मिट्टी. शिवलिंग 746 16

### पार्य

उस पार का 998.4

गाध्य 984.9

दूर तटवर्ती 25 32

पारगम्य 1097.18

### पार्यता

पार्यता 984 5

पारगम्यता 1097.5

### पार्लमेंट

संसद 889.1

### पार्लमेंटरी (अँ)

संसद योग्य 889.24

संसद विषयक 889.23

### पार्लामेंट

संसद 889.1

### पार्लियामेंट हाउस (अँ)

संसद भवन 695.7

### पार्व

उत्सवी 56.8

### पार्वती

अपर्णा 776.10

गणेशः माता 773.24

गोपी 771.32

गोपी चंदन 100.14

द्रौपदी 771.64

धाय माँ 720 2

निर्झर 21.8

पार्वती 776.9 ⇌

शिवः पत्नी सूची 767.20

### पार्वती (पुनर्जन्म)

सती 776.16

### पार्वती कुमार

स्कंद 773.50

### पार्वती नंदन

गणेश 773.22

### पार्वती पति

शिव 767.1

पारुका  
पसली 133.12  
पार्थ  
अवशिष्ट 954.17  
आयाम 964.1  
करवट 1027.4  
दिशा 29.1  
पर्वत ढाल 16 12  
पार्थ 997.1 ⇨  
पार्थ भुजा 968 32  
बाल 147.5  
बैकप्राउंड 404.22  
मंत्र पार्थ 471 17  
पार्थ काष्ठ  
चीखट पार्थ काष्ठ 809.4  
पार्थ की ओर  
पार्थ की ओर 997 23 ⇨  
पार्थग  
पार्थघर 696 18  
सहयात्री 1088 2  
पार्थ गायक  
पार्थ गायक 460.28 ⇨  
पार्थ गायन  
पार्थ गायन 460 27 ⇨  
पार्थघर  
अधीनस्थ कर्मचारी 652 33  
पार्थघर 696.18 ⇨  
सहयात्री 1088 2  
पार्थघरण  
पार्थघर्या 696.17  
पार्थघरतः  
पार्थघरतः 696.28 ⇨  
पार्थघर होना  
पार्थघर होना 696 23 ⇨  
पार्थघर्या  
पार्थघर्या 696 17 ⇨  
पार्थ धित्र  
पार्थ धित्र 404.16 ⇨  
पार्थ द्वार  
पार्थ द्वार 808.5 ⇨  
पार्थनाम्न  
तीर्थकर सूची 782.2  
पार्थ परिवर्तन  
पलटाव 1027.8  
पार्थ भाग  
पार्थ भाग 997.5 ⇨  
पार्थ भागीव  
पार्थ भागीव 997.19 ⇨  
पार्थ भुजा  
त्रिकोणः भुजा सूची 968.29  
पार्थ भुजा 968.32 ⇨  
पार्थभु  
पार्थ भूमि 997.4  
पार्थ भूमि  
पार्थ भूमि 997.4 ⇨  
पार्थ भें  
पार्थघरतः 696.28

पार्थयुक्तता  
आयामयुक्तता 964.2  
पार्थ रेखा  
पार्थ भुजा 968 32  
पार्थबली  
निकटस्थ 31 7  
पार्थीय 997 9  
पार्थः समरूपता  
सममिति 1026.2  
पार्थस्थ  
निकटस्थ 31 7  
पार्थीय 997 9  
पार्थहीन  
आयामहीन 964 21  
पार्थहीनता  
आयामहीनता 964 3  
पार्थस्थि  
पसली 133 12  
पार्थिक  
पार्थीय 997 9  
सहयात्री 1088 2  
पार्थीय  
पार्थीय 997 9 ⇨  
पार्थत  
घुट्टयुग्म 771 66  
पार्थती  
दुर्गा 776 7  
द्रौपदी 771 64  
पार्थद  
निर्वाचित प्रतिनिधि 888 11  
परिषद सदस्य 889 8  
पार्थघर 696 18  
प्रतिनिधि सूची 888 27  
राजा. संगी 696 4  
सदस्य 692 30  
पार्थि  
कुंती 771.49  
तथ्यान्वेषण 336 1  
पीठ 147 8  
सेना पृष्ठ 933 3  
पार्थल (अँ)  
पैक 1014.2  
पार्थलक  
पालक 189.26  
पाल  
घरवाहा [घरवाहन] 556.8  
पाल 1073.10 ⇨  
पालः आका बौल  
मरतूल. अकडंडा 1073.14  
पालक  
अश्वयान चालक 1079.5  
ईसा 791.8  
कर्तव्य .पालक 895.12  
घरवाहा [घरवाहन] 556.8  
पालक 189.26 ⇨  
पालक पोषक 720.20  
संरक्षक 908.26  
संवर्धक 979.26

साग सक्ती सूची 189 4  
पालक गोहत  
साग गोहत 208.34  
पालक धाय  
गवर्नस 720 4  
पालक पोषक  
पालक पोषक 720.20 ⇨  
पालकाप्य  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
पालकी  
डोली 802 16  
पालकी 1071 24 ⇨  
पालकी आरोहण  
पालकी आरोहण 1082 18 ⇨  
पालकी आरोही  
पालकी आरोही 1082.19 ⇨  
पालकी परदा  
पालकी परदा 605 14 ⇨  
पालकी बहन  
पालकी बहन 1082 20 ⇨  
पालकी वाहक  
पालकी वाहक 1082.21 ⇨  
पालकी सवार  
पालकी आरोही 1082.19  
पालकी सवारी  
पालकी आरोहण 1082 18  
पालघर  
पालघर 1073 40 ⇨  
पालट  
दत्तक पुत्र 716 6  
पालः अंडा  
अकडंडा 968 23  
पालः अंडा बल्ली  
मरतूल आक 1073 13  
पालभा  
तराजू पलका 962.23  
पालतू  
पालतू 127.95 ⇨  
पालतू पशु  
पालतू पशु 127 3 ⇨  
पालथी  
पालथी 1028.7 ⇨  
बैठनाः मुद्रा सूची 1028 5  
पालन  
आज्ञा पालन 347 6  
पालन पोषण 720 1  
पालन करना  
पालन पोषण करना 720.17  
पालन कर्ता  
परपोषक पिता 720.6  
पालक पोषक 720.20  
पालन पोषण  
पालन पोषण 720.1 ⇨  
पालन पोषण (दे.)  
संवर्धन 979.7  
पालन पोषण करना  
पालन पोषण करना 720.17 ⇨

पालन पोषण कर्ता  
पालक पोषक 720 20  
पालना  
कर्तव्य पालन करना 895 8  
कार्य समापन करना 522.3  
घरखी झुला. डोली 1034 11  
दायित्व पालन करना 895 7  
निष्ठा निभाना 826 8  
परपालन करना 720 18  
पालन पोषण करना 720 17  
पालना 1034.17 ⇨  
भरण पोषण करना 650 18  
शिशु पालना 1034.18  
पालना पोषना  
परपालन करना 720 18  
पालन पोषण करना 720 17  
पालने वाला  
पालक पोषक 720.20  
पाल नीका  
पाल नीका 1072.9 ⇨  
पाल नीकायन  
नीका विहार 483.21  
पाल पोस  
पालन पोषण 720 1  
पाल बौधना  
पाल समेटना 1080 33  
पाल यान  
पाल नीका 1072 9  
पालयिता  
पालक पोषक 720 20  
पालः शहतीर  
मस्तूलः शहतीर 1073 15  
पाल समेटना  
पाल समेटना 1080.33 ⇨  
पाला  
कुर्ती मैदान 482.11  
खेल पाला 482.9  
ठिठुरन 105 4  
तुषार 90 8  
तुषार पात 90.9  
पारी 70.9  
प्रतिद्विदिता 707.1  
मुठभेड़ 915 2  
शीतलता 105 1  
संपर्क 703 5  
पाला [पाली]  
पालतू 127.95  
पालागन  
घरण स्पर्श 1060 2  
पाला पकना  
तुषार पात होना 90.13  
मुठभेड़ होना 915.7  
हताश होना 376.4  
पाला पोसा [पाली पोसी]  
पालित पोषित 720.19  
पाला लगना  
तुषार पात होना 90.13

## पालि

### पालि

बौध 22.2  
 ललरी 134.12  
**पालिका**  
 गवर्नस 720 4  
**पालित**  
 रमित 908.19  
**पालित [पालिता]**  
 पालित पोषित 720 19  
**पालित (आज्ञा)**  
 पालित (आज्ञा) 347.20 ⇐  
**पालित पोषित**  
 पालित पोषित 720.19 ⇐  
**पालित पोषित [पालिता पोषिता]**  
 पालित पोषित 720 19  
**पालिश**  
 पालिश 290.14 ⇐  
 पालिशिंग 218.12  
**पालिश (अ)**  
 पालिश 290 14  
**पालिश करना**  
 उज्ज्वल करना 218 32  
**पालिश गौद**  
 रंगव्य गौद 1012.9  
**पालिशिंग**  
 पालिशिंग 218.12 ⇐  
**पालिशिंग (अ)**  
 पालिशिंग 218.12  
**पालिसी (अ)**  
 कार्य नीति 517.6  
 बीमा पालिसी 631.20  
**पालिसी होल्डर (अ)**  
 बीमेदार 631 21  
**पाली**  
 अंजलि पात्र 150.3  
 कटोरी 883.6  
 परपोषक पिता 720 6  
 पारी 70.9  
 पाली 70.10 ⇐  
 पाली 421.7 ⇐  
 प्याला 684.12  
 बटलोई 682.16  
 सक्केरा 883.10  
 सुरमादानी 225 36  
**पाले**  
 आमने सामने 915.13  
 प्रतिद्विधापूर्वक 707.15  
**पा लेना**  
 खोज पाना 883.6  
**पाई**  
 धर 149.12  
**पाईका**  
 पाईका 593.55  
**पाईकी**  
 खर्काई 588 11  
 जुता 588.14  
**पाव**  
 घतुर्धास 949.20

धोथाई 949.39  
 डबल रोटी 202.30  
 पाव 202.33 ⇐  
 पीवा 962.46  
**पावः 4**  
 सेर 962 54  
**पायक**  
 अग्नि 106.1  
 तपस्वी 789.14  
 विशोधक 219.9  
 विशोधन कर्ता 219.10  
 सूर्य 8 1  
 स्वच्छक 218 38  
**पावकात्मज**  
 स्कंद 773 50  
**पाव गैलन**  
 इवार्ट 959 46  
**पावडर**  
 पावडर 225.11 ⇐  
**पावडर (अ)**  
 डिस्ट्रिक्ट पावडर 220.23  
 पावडर 225 11  
**पावतार**  
 गाघ स्थल 984 6  
**पायती**  
 आवक पत्र 1054.9  
 प्राप्ति 637.2  
 रसीद 632 25  
**पावती दे**  
 पत्रोत्तर अपेक्षा 444 40  
**पावती पत्र**  
 आवक पत्र 1054 9  
**पावन**  
 अग्नि 106 1  
 नृसिंह नी रूप सूची 769.21  
 पापहीन 813.9  
 विशोधक 219 9  
 विशोधन कर्ता 219 10  
 शीघ (आहार) 198 13  
 स्वच्छ 218.33  
 स्वच्छक 218 38  
**पावनता**  
 पापहीनता 813 1  
 विशुद्धता 219 2  
 स्वच्छता 218 1  
**पावन ध्वनि**  
 शंख 461 78  
**पावना**  
 आदेय 634.31  
**पावना होना**  
 आदेय होना 634.20  
**पावनी**  
 गंगा नदी 20 10  
 तुलसी 13.9  
**पावर (अ)**  
 विद्युत 102.1  
 सत्ता 899 1

**पावर आऊ ऐटानी (अ)**  
 प्रदत्त अधिकार 897.7  
**पावर बोट (अ)**  
 नीका सूची 1072.3  
 यत्र नीका 1072 10  
**पावर हाउस (अ)**  
 बिजली घर 102.7  
**पाव रोटी**  
 डबल रोटी 202.30  
**पावली**  
 चवन्नी 629.11  
**पावस**  
 वर्षा काल 54.1  
**पावा**  
 आधार स्तम्भ 607 8  
 पाया 596.15  
**पाश**  
 आवद्धन उपकरण 1013.7  
 कूट पाश 1013 9  
 दिव्य पाश 928 4  
 पाश 1013 8 ⇐  
**पाशाक**  
 पासा 479.21  
**पाश कुर्ती**  
 जामवंती कुर्ती 486.12  
**पाश क्रीडा**  
 दूत 481.1  
**पाशाप्रस्त**  
 पाशाबद्ध 1013 27  
**पाशापाणि**  
 वरुण 773.43  
**पाश पोत**  
 मधुआरी नाव 1072.30  
**पाश बंध**  
 फंदा 572 8  
 फेक फंदा 1013.10  
**पाश बंधन**  
 पाश बंधन 868.7 ⇐  
**पाशाबद्ध**  
 पाशाबद्ध 868.38 ⇐  
 पाशाबद्ध 1013.27 ⇐  
**पाशाबद्ध करना**  
 पाशाबद्ध करना 868.32 ⇐  
**पाशानुक्त**  
 उन्मुक्त 1015 9  
**पाश में कैसना**  
 पाश में कैसना 1013.21 ⇐  
**पाश लगाना**  
 पाश लगाना 1013.20 ⇐  
**पाशाविक**  
 वन्यतापूर्ण 734.17  
 सामिष 205.3  
**पाशाविकता**  
 वन्यता 734.5  
**पाशांत**  
 पीठ 585.75  
**पाशित**  
 पाशाबद्ध 868.38

पाशाबद्ध 1013.27  
**पाशी**  
 पक्षी आखेटक 252.11  
 वरुण 773.43  
**पाशुपत**  
 दिव्यास्त्र सूची 928.2  
 पाशुपत संप्रदाय 737.58  
 शिव विषयक 767.2  
**पाशुपत संप्रदाय**  
 पाशुपत संप्रदाय 737.58 ⇐  
**पाशुपात**  
 शिव. अस्त्र 767.10  
**पाशु बंधक**  
 यज्ञ स्तम्भ स्थान 753.20  
**पाशु बंधका**  
 बलिवेदी 754.5  
**पाश्चात्य**  
 पश्च 995.16  
 पश्चिमी 29.33  
**पाश्चात्य छंद**  
 स्वानिक छंद 452.5  
**पाश्या**  
 कूट पाश 1013.9  
**पाशाण**  
 कठोरहृदय 835.11  
 कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8  
 पाशाण 99.1 ⇐  
**पाशाण [पाशाणी]**  
 पाशाणीभूत 99.16  
**पाशाण खंड**  
 कंकरीट 938 37  
**पाशाण खड 938.33 ⇐**  
**पाशाणता**  
 कठोरता 269.3  
**पाशाण पटल**  
 पाशाण पटल 990.19 ⇐  
**पाशाण पटी**  
 घतुर्पुंज पाशाण पटल 990.20  
**पाशाणः बाट**  
 पाशाणः बाट 962.28 ⇐  
**पाशाण युग मानव**  
 वृष मानव 128.7  
**पाशाण रंग**  
 खनिज रंग 290.2  
**पाशाण रसायन**  
 पैट्रो रसायन 110.16  
**पाशाण शिला**  
 चट्टान 99.14  
**पाशाणहृदय**  
 कठोरहृदय 835.11  
**पाशाणी**  
 अहस्या 770.17  
 भाला 925.4  
**पाशाणीभूत**  
 पाशाणीभूत 99.16 ⇐  
**पाशाणीय**  
 कठोर 269.17  
 पाशाणीय 99.15 ⇐



पासंग  
तराजू पासंग 962.25  
पासंगदार तराजू  
शलत तराजू 962 11  
पास  
आसन्न 67 10  
निकट में 31 9  
पास 622 15 ⇨  
पास (औं)  
उत्तीर्ण 322.39  
पारित 329 27  
पास 622 15  
प्रवेश पत्र 1094.7  
पास ज्ञाना  
मिलना 389 5  
पास करना  
पारण करना 329.16  
पास का  
निकटस्थ 31 7  
पास की नज़र  
निकट दृष्टि 282 6  
पासबारी  
पक्षधरता 885 1  
पासनी  
अन्नप्राशन संस्कार 798.10  
पास पड़ोस  
पड़ोस 31 3  
पास पहुँचना  
समकक्ष पहुँचना 1095.9  
पास पास  
निकट में 31 9  
पासपोर्ट (औं)  
देश निर्गमामुमति पत्र 1092.8  
पासबान  
पहरेदार 908.9  
पुलिस कर्मी 886.3  
संरक्षक 908.26  
पासबानी  
पहरेदारी 908.8  
संरक्षा 908.3  
पास बैठना  
निकट बैठना 1028.9  
पास बैठना  
निकट आसीन 1028.11  
पास बाला  
पड़ोसी 31.4  
पास से गुज़रना  
बाहर से गुज़रना 1097.13  
पास होना  
उत्तीर्ण होना 322.36  
पासा  
गोटी 479.1  
चौपड़ 478.6  
पासा 479.21 ⇨  
संयोग 69.1  
पासा कैक कर शुभारुण कथन  
रमल 262.15

पासा: बिंदी  
पासा: बिंदी 479.25 ⇨  
पासी  
पत्नी आखेटक 252.11  
पास्तेरीकरण  
पास्तेरीकरण 554 9 ⇨  
पास्तेरीकृत  
पास्तेरीकृत 554.24 ⇨  
पाहन  
पाषाण 99 1  
पाषाण खंड 938 33  
पाहनी  
पाषाणीय 99.15  
पाहुन  
अतिथि 183.16  
पाहुना  
दामाद 724.22  
पाहुना [पाहुनी]  
अतिथि 183.16  
पाहुनी  
रखेली 808 7  
सत्कार 184.1  
पिगपींग (औं)  
टेबल टेनिस 478.2  
पिगल  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
घातक 126 39  
नेवला 127.69  
पिगला नाकी 757 4  
पीतल 94.10  
बंदर 127.86  
यक्ष सूची 779.3  
रुद्र 767.34  
शिव 767.1  
सर्प सूची 123 16  
हरताल 92.13  
पिगल [पिगला]  
कथई 289.36  
पिगल लौह  
पीतल 94.10  
पिगल शास्त्र  
छंद शास्त्र 452.32  
पिगला  
गोरोधन 274.19  
दिग्गज पत्नी सूची 780 4  
पिगला नाकी 757.4  
पीतल 94.10  
लक्ष्मी 775.1  
शीशान 13.22  
पिगलाक्ष  
शिव 767.1  
पिगला नाकी  
पिगला नाकी 757.4 ⇨  
पिग कटिक  
गोमेद 96.9  
पिगा  
हलदी 261.38

पिगाक्ष  
हनुमान 781 19  
पिगाशा  
शुद्ध स्वर्ण 95 5  
पिजट  
नेत्र मल 215.9  
पिजन  
धुनाई 567.5  
पिजन यंत्र  
धुनाई यंत्र 562 4  
पिजर  
अस्थि पंजर 133 5  
पिजरा 603 17  
पिजरक  
हरताल 92.13  
पिजरा  
पसली पंजर 133 13  
पिजरा 603 17 ⇨  
शरीर 139 1  
पिजरापोल  
गोशाला 603.24  
पिजल  
आतंकित 395 23  
हरताल 92 13  
पिजा  
जादूगरनी 474.12  
रुई 568.5  
पिजाई  
धुनाई 567.5  
पिजाल  
स्वर्ण 95 4  
पिजिन्न  
धुनाई यंत्र 562 4  
पिजियारा  
धुनाई कर्मी 567 6  
पिजुल  
पल्लव गुच्छ 115 3  
पिजुली  
पल्लव गुच्छ 115 3  
पिट  
पिट 959.52 ⇨  
पिंड  
अद्द 948.2  
आकाश पिंड 3 1  
आहार पदार्थ 186.1  
गोल पिंड 977.1  
गोला 575.5  
ग्राम 620.1  
डेर 686.6  
धातु पिंड 976.11  
पिंड 976.1 ⇨  
मांस पिंड 132.2  
राशि 686.2  
वस्तु 686.1  
शरीर 139.1  
श्राद्ध पिंड 253.23  
सघन 81.15  
सघन पदार्थ 79.9

समूह 690.1  
पिंड अवस्था  
सघन अवस्था 79.8  
पिंडक  
ग्रास 181.26  
धातु पिंड 976 11  
बोल 274.28  
पिंडकक्षा  
पिंडकक्षा 4.1 ⇨  
पिंड कुप्रता  
बारीक्री 965.9  
पिंड खजूर  
घुहारा 191.8  
पिंड खजुरिका  
खजूर 190.14  
पिंडगतिक ऊर्जा  
गतिक ऊर्जा 101.2  
पिंडगोस  
बोल 274 28  
पिंड चीकाई  
मोटाई 965.8  
पिंडज  
जरायुज 243.15  
योनिज 243 13  
पिंड तैल  
लोबान 274 27  
पिंडद  
पिंडद 253.25 ⇨  
भोजन प्रदाता 183.42  
पिंडद (वे.)  
श्राद्ध कर्ता 253.41  
पिंडदान  
पिंडदान 253.24 ⇨  
पिंडदान (वे.)  
श्राद्ध 253.21  
पिंडदान करना  
पिंडदान करना 253.35 ⇨  
पिंडदान कर्ता  
पिंडद 253.25  
पिंड देना  
पिंडदान करना 253.35  
पिंडन  
पिंडन 81.7 ⇨  
पिंड न छोड़ना  
अलग न होना 1010.16  
पिंड नितल  
नितल 985.9  
पिंड निर्माण  
पिंडन 81.7  
पिंडकला  
खजूर 190.14  
पिंड बनाना  
पिंडित करना 81.13  
पिंडभोजी  
पितृ 253.26  
पिंडमूल  
गाजर 189.14

## पिंडयुक्त

**पिंडयुक्त**  
साकार 967.12

**पिंडल**  
अक्ष दंड 1077.12

**पिंडली**  
पिंडली 149.16 ⇨

**पिंड सतह**  
उत्तल 985.4

**पिंडा**  
पिंड 976.1  
श्राद्ध पिंड 253.23

**पिंडाकार**  
त्रिआयामीय 964.24  
पिंडाकार 976.15 ⇨

**पिंडाकारता**  
त्रिआयामता 964.11  
पिंडाकारता 976.2 ⇨

**पिंडाकृति**  
पिंड 976.1

**पिंडा पारना**  
पिंडदान करना 253.35

**पिंडाश्र**  
ओला 54.15

**पिंडायस**  
इस्पात 93.11

**पिंडार**  
गाय मैस घरवाहा 556.9  
नग्न साधु 790.19

**पिंडिका**  
गोल पिंड 977.1  
गोली 977.4  
पहिया. नामि 1077.4  
पिंडिका 976.13 ⇨

**पिंडित**  
गुणित 955.23  
पिंडित 81.19 ⇨  
सधन 81.15

**पिंडित करना**  
पिंडित करना 81.13 ⇨

**पिंडिया**  
लोई 195.15

**पिंडी**  
गुड़: मेली 280.15  
गोला 575.5  
गोली 977.4  
ग्राम 620.1  
जीव 121.4  
धातु पिंड 976.11  
पहिया नामि 1077.4  
पिंड 976.1  
पिंडद 253.25  
पितृ 253.26  
रोपणार्थ उखड़ी पिंडी 548.10

**पिंडीकरण**  
पिंडन 81.7

**पिंडी बंध**  
पिंडी बंध 462.20 ⇨  
बंध प्रस्थान 468.27

**पिंडीर**  
समंदर झाग 87.18

**पिंडोल**  
पीली मिट्टी 100.20

**पिंशु**  
पिंस्तू 122.30

**पिंअ**  
पति 803.5  
प्रेमपात्र 369.4

**पिंअरवा**  
पति 803.5  
प्रेमपात्र 369.4

**पिंउ**  
प्रेमपात्र 369.4  
प्रेमी 368.2

**पिंकंग**  
घातक 126.39

**पिंक**  
कोयल 126.21

**पिंकअप**  
पिंकअप 1071.14 ⇨

**पिंकअप (अँ)**  
पिंकअप 1071.14

**पिंकनिक**  
पिंकनिक 1085.8 ⇨

**पिंकनिक (अँ)**  
पिंकनिक 1085.8

**पिंकबंधु**  
आम वृक्ष 13.5

**पिंकराग**  
आम वृक्ष 13.5

**पिंकी**  
कोयल 126.21

**पिंकेटिंग (अँ)**  
घरना 902.15

**पिंक्वर (अँ)**  
चित्र 404.1  
फिल्म 472.1

**पिंक्वर टपूब (अँ)**  
टेलीविज़न टपूब 472.29

**पिंक्वर टपूब (अँ)**  
टीवी स्क्रीन 606.6

**पिंक्वल (अँ)**  
चित्र बिंदु 968.3

**पिंग आयरन (अँ)**  
कच्चा लोहा 93.8

**पिंगमैट**  
पिंगमैट 290.10 ⇨

**पिंगमैट (अँ)**  
पिंगमैट 290.10

**पिंगा**  
बाँस निर्यास 84.10

**पिंघलन**  
द्रवण 80.2

**पिंघलना**  
दया आना 834.9  
द्रवित होना 80.4

**पिंघला [पिंघली]**  
द्रवित 80.6  
संगलित 565.28

**पिंघलाऊ**  
द्रायक 80.7

**पिंघलाना**  
संगलित करना 565.24

**पिंघला पत्थर**  
ज्वालामुखी: लावा 9.20  
लावा 99.2

**पिंघ (अँ)**  
स्वर माप 459.16

**पिंघ (अँ) (क्रिकेट)**  
दोड़ पट्टी 1063.31

**पिंघक**  
दबक 989.3  
नतोदरता 989.1

**पिंघकन**  
दबक 989.3

**पिंघकना**  
दबकना 989.7  
नतोदर होना 989.6  
सिकुड़ना 980.17

**पिंघका [पिंघकी]**  
दबका [दबकी] 989.11

**पिंघकारी**  
एनीमा 216.11  
पिंघकारी 1032.14 ⇨  
प्रधार 1032.8

**पिंघकारी छोड़ना**  
प्रधार फेंकना 1032.24

**पिंघकाव**  
नतोदरता 989.1

**पिंघकी**  
पिंघकारी 1032.14

**पिंघन**  
दबक 989.3  
संकुचन 980.9

**पिंघना**  
दबकना 989.7  
संकुचित होना 980.15

**पिंघपघ**  
पिंघपघ 207.6 ⇨

**पिंघपिघ**  
पिंघपघ 207.6

**पिंघपिघाइट 297.34**  
पिंघपिघा [पिंघपिघी]  
पिंघपिघा [पिंघपिघी] 197.38 ⇨

**पिंघपिघाइट**  
पिंघपिघाइट 297.34 ⇨

**पिंघा [पिंघी]**  
दबका [दबकी] 989.11  
संकुचित 980.26

**पिंघाई**  
रौंदाई 541.4

**पिंघिंड**  
उदर 148.6

**पिंघिंडिका**  
पिंघली 149.16

**पिंघुक्क**  
पिंघकारी 1032.14

**पिंघ्वट**  
रूँदा [रूँदी] 541.13  
सारहीन 84.20

**पिंघ**  
कलगी 140.5  
पंख: एक पर 151.8  
पूँछ: पंख 151.12  
बाण: पंख 926.20

**पिंघबाण**  
बाज़ गिट्ट 126.29

**पिंघमूल**  
पंख उंडी 151.9

**पिंघल**  
नौका पृष्ठ 1073.31  
पूँछ: पंख 151.12  
फिसलन युक्त 1084.47

**पिंघ लतिका**  
पूँछ: पंख 151.12

**पिंघिला**  
शीशम 13.22

**पिंघ-**  
परघ 995.16

**पिंघन**  
अवनति 535.1

**पिंघनना**  
अवनति होना 535.4

**पिंघनना**  
पीछे घूटना 1095.11

**पिंघका [पिंघकी]**  
अवनत 535.5  
परंपरावादी 343.23  
प्रतिगत 1095.21  
फिसडूडी 1095.23

**पिंघकापन**  
फिसडूडीपन 1095.6

**पिंघपलाई**  
भूत 786.1

**पिंघलगा [पिंघलगी]**  
अनुगामी 345.7  
अनुचर 696.16  
पिंघलग्गू 1096.13  
पीछा करने वाला 1096.12

**पिंघलगापन**  
पिंघलग्गूपन 1096.4

**पिंघलगी**  
पीछा 1096.3

**पिंघलग्गू**  
अनुगामी 345.7  
अनुचर 696.16  
पिंघलग्गू 1096.13 ⇨

**पिंघलग्गूपन**  
पिंघलग्गूपन 1096.4 ⇨

**पिंघला [पिंघली]**  
अंतिम 995.11

अंतिम स्थानीय 707.14  
 अतीत 83.8  
 उत्तर कालीन 80.13  
 पछेती 82.22  
 पश्च 995.16  
 पूर्व कालीन 60.14  
 भूत कालीन 36.18  
 भूतपूर्व 65.3  
 समयोपरांत 62.16  
 पिछला अगला  
 काल क्रमिक 991.24  
 पिछला जन्म  
 पूर्व जन्म 248.5  
 पिछला जमाना  
 भूत काल 36.10  
 पिछला दिन  
 विगत कल 46.13  
 पिछलापन  
 परधता 995.4  
 पूर्व कालीनता 80.8  
 पिछला सवार  
 परधाराही 1082.3  
 पिछली कहानी  
 पुरा कथा 450.13  
 पिछली जेब  
 हिप पाकिट 672.4  
 पिछली बार्ता से सीखना  
 सिंहावलोकन करना 330.15  
 पिछली रात  
 रात. चौथा पहर 49.9  
 पिछली रात: नशा  
 हंगओवर 211.4  
 पिछले दिनों  
 निकट भूत काल में 36.31  
 पिछले दिनों  
 पूर्व काल में 60.18  
 पिछबाड़ा  
 परधभाग 995.6  
 पिछाड़  
 अधिलंघन 1095.4  
 पिछाड़ना  
 पीछे छोड़ना 1095.10  
 पिछाड़ने वाला  
 अधिलंघक 1095.20  
 पिछाड़ा [पिछाड़ी]  
 अधिलंघित 1095.19  
 पिछाड़ी  
 निरंतर 148.13  
 परधभाग 995.6  
 पिछेती  
 पछेती क्रसल 547.10  
 समयोपरांत 62.16  
 पिछेती क्रसल  
 पछेती क्रसल 547.10  
 पिछेला  
 पल्लाव: पिछेला 586.27  
 पीठ: पल्ला 585.73

पिछोही  
 ओढ़नी 585.9  
 पिछोरा  
 उत्तरीय 585.7  
 पिछोरी  
 ओढ़नी 585.9  
 पिछ्ना  
 पीजा 202.24  
 पिटत  
 पिटाई 918.9  
 पिटतू  
 पिटेल 918.35  
 पिटक  
 अनाज गोदाम 670.18  
 खत्ती 670.12  
 पिटारा 677.12  
 पिटारी 677.13  
 संकलन पुस्तक 446.23  
 सग्रह 669.2  
 सद्रू 676.15  
 पिटकन  
 दबक 989.3  
 पिटकना  
 दबकना 989.7  
 पिटका  
 फुसी 167.1  
 पिटना  
 पराजित होना 913.3  
 पिटपिट  
 पटपट 296.22  
 पिटपिटाना  
 विवश होना 901.7  
 पिटरिया  
 पिटारी 677.13  
 पिना [पिटी]  
 पिटा [पिटी] 918.34 ⇨  
 पिटाई  
 आधात वर्धन 545.6  
 पिटाई 918.9 ⇨  
 पिटाई करना 918.23 ⇨  
 पिटाई कर्ता  
 पिटेल 918.35  
 पिटारा  
 पिटारा 677.12 ⇨  
 पिटारी  
 पिटारी 677.13 ⇨  
 बॉस बेंट टोकरा 677.4  
 सद्रूधी 676.18  
 पिटेल  
 पिटेल 918.35 ⇨  
 पिटदू  
 पिटेल 918.35  
 पिटदू 479.4 ⇨  
 पिटदू खेल  
 पिटदू खेल 476.13 ⇨  
 पिट्टी  
 पीठी 192.13

पिट्टी पिसाई  
 पिट्टी पिसाई 540.7 ⇨  
 पिट्टू  
 अनुगामी 345.7  
 कल्पित खिलाड़ी 475.6  
 गोटी 479.1  
 घाटकार 841.35  
 पकधर 885.33  
 पिट्टू 479.4  
 रन 475.31  
 समर्थक 885.36  
 सह खिलाड़ी 475.5  
 पिट्टूटरी ग्लैंड (अँ)  
 पीयूषिद 132.15  
 पिठर  
 पतीला 682.13  
 मधन दड 554.14  
 पिठरक  
 कड़ाही 682.7  
 बरतन 680.1  
 पिठरिका  
 पतीला 682.13  
 हंडिया 679.21  
 पिठरी  
 पतीला 682.13  
 हंडिया 679.21  
 पिठ्रकिया  
 गुभ्रिया 203.8  
 पिठ्रकी  
 फाखता 126.52  
 फुसी 167.1  
 पिठ्रिया  
 फुसी 167.1  
 पिण्पाक  
 कसर 274.16  
 ंग 281.39  
 पितर  
 पितृ 253.26  
 पितृसत्ता प्रमुख 688.4  
 भूत पूर्वज 727.22  
 पितर: अहोरात्र  
 चांद्र मास 43.2  
 पितरिहा  
 पीतल घट 679.8  
 पिता  
 गृहपति 235.5  
 गौड 764.14  
 जनयिता 243.10  
 पंचपिता सूची 717.6  
 परदा निषिद्ध संबंधी सूची 591.7  
 पिता 717.4 ⇨  
 पिता जैसा  
 पितातुल्य 720.21  
 पितातुल्य  
 पितातुल्य 720.21 ⇨  
 पितातुल्य पीच संबंध  
 पंचपिता 717.5

पिता द्वारा कन्या दान  
 प्राजापत्य विवाह 799.28  
 पिता पक्ष  
 पिता पक्ष 722.3 ⇨  
 पिता: परदादा  
 लकड़ दादा 722.9  
 पिता पुत्र [पिता पुत्री]  
 पिता पुत्र [पिता पुत्री] 717.2 ⇨  
 पितामह  
 दादा 722.5  
 परदादा 722.7  
 ब्रह्मा 766.1  
 भीष्म 771.77  
 पितामह भीष्म  
 भीष्म 771.77  
 पितामही  
 दादी 722.6  
 पैतृक 727.43  
 पिता माता  
 पिता माता 717.1 ⇨  
 पितामाताहीन  
 अनाथ 719.5  
 पितामाताहीनता  
 अनाथता 719.1  
 पिता विषयक  
 पिता विषयक 717.12 ⇨  
 पिता से पुत्र को  
 अनुवंशत 727.44  
 पिताहीन  
 पिताहीन 719.6 ⇨  
 पितिया  
 चधिया 722.48  
 चाचा 722.22  
 पितियानी  
 चाची 722.23  
 पितिया ससुर  
 पीतसरा 724.12  
 पितिया सार  
 पीतस 724.13  
 पितु  
 पिता 717.4  
 पितु मात  
 पिता माता 717.1  
 पितु  
 पिता 717.4  
 पिता विषयक 717.12  
 पितृ 253.26 ⇨  
 पितृसत्ता प्रमुख 688.4  
 पूर्वज समष्टि 727.21  
 पितृ (बे.)  
 भूत पूर्वज 727.22  
 पितृ ऋण  
 ऋणत्रय सूची 761.15  
 पितृक  
 पैतृक 727.43  
 पितृ कार्य  
 श्राद्ध 253.21

## पितृगण

### पितृगण

पितृ 253.26

### पितृ ग्रंथि

पितृ ग्रंथि 352.9 ⇨

### पितृ तर्पण

तर्पण 253.22

श्राद्ध 253.21

### पितृ तिथि

अमावस्या 44.21

### पितृ दाय

उत्तराधिकार 623.1

पैतृक संपत्ति 624.7

### पितृवेष

पितृ 253.26

### पितृनाथ

अर्यमा 253.28

यमराज 256.1

### पितृ पक्ष

पितृ पक्ष 45.4 ⇨

### पितृपति

अर्यमा 253.28

### पितृ पथ

आकाश गंगा 1.14

### पितृ परिवार

पिता पक्ष 722.3

### पितृ पूजक

श्राद्ध कर्ता 253.41

### पितृ प्रधान

अर्यमा 253.28

### पितृ भूमि

स्वदेश 34.12

### पितृ यज्ञ

तर्पण 253.22

ष्ठिडदान 253.24

यज्ञ सूची 753.2

### पितृ राज

पितृ राज 253.27 ⇨

### पितृ बंध

पिता पक्ष 722.3

### पितृवत्

पितातुल्य 720.21

### पितृबर्न

श्मशान 254.9

### पितृबनेबर

मृत 786.1

शिव 767.1

### पितृव्य

चाचा 722.22

### पितृ ब्राह्म

श्राद्ध 253.21

### पितृसत्ता

पितृसत्तात्मक समाज 688.3

### पितृसत्तात्मक समाज

पितृसत्तात्मक समाज 688.3 ⇨

### पितृसत्ता प्रमुख

पितृसत्ता प्रमुख 688.4 ⇨

### पितृ सत्ता प्रमुख

पितृसत्ता प्रमुख 688.4

### पितृसू

दादी 722.6

### पितृस्थानीय

अभिपिता 720.12

### पितृस्वस्ता

फूफी 722.27

### पितृ

त्रिदोष सूची 215.13

पितृ 215.14 ⇨

पितृव्य 129.8

### पितृ कोष

पिताशय 132.14

### पितृ ग्रंथि

पिताशय 132.14

### पितृपांडु

पीलिया 163.37

### पितृ: पानी

पितृ: पानी 215.15 ⇨

### पितृ प्रकोप

पिताधिक्य 163.28

### पितृल

पीतल 94.10

भोजपत्र 415.8

### पितृव्य

पितृव्य 129.8 ⇨

### पितृ शूल

पिताधिक्य 163.28

### पितृ

वीर्य 394.6

प्रताप 849.5

साहस 394.1

### पिताधिक्य

पिताधिक्य 163.28 ⇨

### पिताशय

पिताशय 132.14 ⇨

यकृत 148.7

### पिताशय

पिताशय 132.14

### पितृ

चाचा 722.22

पिताशय 132.14

### पितृयता

अम्लाधिक्य 163.27

### पित्रागतता

दायागतता 623.19

### पित्र्य

अँगुला-तर्जनी. मध्य स्थान 33.7

पिता विषयक 717.12

माघ 43.17

### पितृना

अति परिश्रम करना 493.7

बहुविध प्रयत्न करना 489.6

### पितृ

पिता 717.4

### पितृई

अति परिश्रम 493.3

### पितृ

गुलेल: गदी 926.2

पितृ 126.50 ⇨

### पितृ [पिही]

पितृ 126.50

लघुकाय 154.28

### पिधान

कपाट 609.5

ढक्कन 675.6

पिधान 675.3 ⇨

### पिधानक

पिधान 675.3

पिधानित कर्ता 675.17

म्यान 924.12

### पिधानन

पिधानन 675.1 ⇨

### पिधानित

पिधानित 675.18 ⇨

### पिधानित करना

पिधानित करना 675.15 ⇨

### पिधानित कर्ता

पिधानित कर्ता 675.17 ⇨

### पिधायी

पिधानित कर्ता 675.17

### पिन (अँ)

सेफ्टी पिन 417.9

हेअर पिन 223.13

### पिनआल (अँ)

आलपिन 417.5

### पिनकना

तंदिल होर्न 266.12

### पिन कुशन (अँ)

आलपिन कुशन 417.6

### पिन कोड

पिन कोड 444.15 ⇨

### पिन कोड (अँ)

पिन कोड 444.15

### पिनड

आबद्ध 1013.22

वेष्टित 592.17

### पिनपिनाना

झींकना 386.22

परेशान होना 519.16

### पिनपिनाहट

नैकनापन 299.17

### पिनाई

धुनाई 567.5

### पिनाक

डंडा 923.5

धनुष 926.8

धूलि पुंज 100.6

शिव: त्रिसूल 767.11

शिव: धनुष 926.12

### पिनाकपाणि

शिव 767.1

### पिनाकी

छद्म सूची 767.36

### पिना

धुनकी 582.2

### पित्री

पित्री 203.19 ⇨

### पिपास

तृषा 180.5

### पिपासा

तृषा 180.5

भोग लिप्सा 363.4

लालसा 359.5

### पिपासांत

तृषा कातर 180.21

### पिपासाहीन

इंद्रिय निग्रही 364.13

### पिपासित

तृषित 180.19

### पिपासु

तृषित 180.19

लालसी 359.29

### पिपियाना

पुयित होना 169.12

### पिपीलक

चीटा 122.21

### पिपीलिका

चीटी 122.20

### पिप्पल

पीपल 13.14

### पिप्पलाद

ऋषि मुनि सूची 789.17

### पिप्पली

नक्ष पिप्पली 281.14

पीपल 13.14

### पिप्पलेश्वर

शिवाभिग सूची 746.17

### पिप्पिका

दंत मल 215.11

### पिप्पित

पपडीदार 990.32

### पिप्पु

नस्ता 165.11

### पिब

आपान कर्ता 207.20

### पिय

पति 803.5

प्रेमपात्र 369.4

### पियक्कड

मद्य रसिक 209.43

### पियक्कडपन

मद्यपता 209.26

### पियक्कडी

मद्य रसिकता 209.25

### पियक्कड

मद्यासक्त 209.44

### पियर

पीला 289.54

### पियरबा

प्रेमपात्र 369.4

प्रेमी 368.2

### पियरी [पियरी]

पीला 289.54

पियरी	पिरीग (अं)	पिशाचनी (दे.)	पिसाई कर्ता
प्रेमपात्रा 369.5	नीका सूची 1072.3	भूतनी 786 2	पिसाई कर्ता 540.22 ⇨
पिया	पिल (अं)	पिशाच पति	पिसान
पति 803.5	दटी 176 25	शिय 767 1	आटा 192 3
प्रेमपात्र 369.4	पिलकना	पिशाच मर्दन	पिसी मिर्च
प्रेमी 368 2	पतित करना 1031 :6	असुर नाश 783 10	मिर्च घूर्ण 278 9
पिया [पी]	पिलना	पिशाच विवाह	पिसैया
अवशोषित 1002 29	घुसना 1094 22	पैशाच विवाह 799 25	पिसाई कर्ता 540.22
आपानित 207,19	झपट्टा मारना 914 15	पिशाच स्त्री	पिसौनी
पियानो	परिश्रम करना 493.6	पिशाचिनी 786 9	पिसाई 540 6
पियानो 461.61 ⇨	पैठना 1094 23	पिशाचांगना	पिस्टन
पियानो (अं)	प्रवृत्त होना 502.5	पिशाचिनी 786 9	पिस्टन 1078 19 ⇨
पियानो 461 61	मुठभेड़ करना 915 8	पिशाचिका	पिस्टन (अं)
पिया मिलन	पिलापिल	पिशाचिनी 786 9	पिस्टन 1078 19
प्रिय संयोग 389.3	पिलपिला [पिलपिली] 154.32	बड़वा दीप्ति 287 18	पिस्टन गति
पिया मिलन की आस	पिलपिला [पिलपिली]	शमशान दीप्ति 287 19	पिस्टन गति 1035 8 ⇨
मिलन अभिलाषा 1057.3	पिलपिला [पिलपिली] 154.32 ⇨	पिशाचिनी	पिस्टन छड़
पियाल	पिलर (अं)	पिशाचिनी 786 9 ⇨	पिस्टन रोड 1078 20
घिरीजी 281 15	स्तंभ 607 7	पिशाची	पिस्टन दंड
पियाल बीजी	पिला [पिली]	पिशाच जातीय 732 17	पिस्टन रोड 1078 20
घिरीजी 281 15	घकेला [घकेली] 1051 39	पिशाचिनी 786 9	पिस्टन रोड
पियु	पिलाया	पंशाचिक 786 16	पिस्टन रोड 1078.20 ⇨
पति 803 5	पीतिमा 289 16	पिशिताश	पिस्टन रोड (अं)
प्रेमपात्र 369 4	पिलापी	शव भक्षी 205 8	पिस्टन रोड 1078 20
पियु पियु	पीतिमा 289 16	पिशुन	पिस्ता
पीपी 298 17	पिलो (अं)	अधम 840 4	पिस्ता 191 9 ⇨
पिरथी	तकिया 593 63	कौआ 126 22	मेवा सूची 191 2
पृथ्वी 9 1	पिल्सा [पिलिया]	छली 827 24	पिस्ता बादाम
पिरा [पिरी]	कुत्ता शिशु 230 13	दुर्जन 818 5	मेवा 191 1
निष्कर्षित 83 14	पिल्सा [पिल्सी]	पिशुनता	पिस्तील
पिरा [पिरी] 573.18 ⇨	कुत्ता शिशु 230 13	आठ अवगुण सूची 761.13	पिस्तील 927.3 ⇨
पिराना	पिय	दुर्जनता 818.1	पिस्सू
पिरान्या 125.8	प्रेमपात्र 369 4	पिष्ट	कीट सूची 122 12
पीड़ा होना 392 18	पिवानर (एष)	आटा 192.3	पिस्सू 122.30 ⇨
पिरान्या	वानर विकास क्रम 127 94	पिसा [पिसी] 540 21	पिहक
पिरान्या 125.8 ⇨	पिशांगक	पीठी 192.13	कुहुक 298 11
पिरान्या (अं)	विष्णु 768 1	पिष्टन	पिहान
पिरान्या 125.8	पिशाच	पिट्ठी पिसाई 540 7	बक्कन 675 6
पिरामिड	असुर 783.6	पिष्ट सौरभ	पिधान 675 3
पिरामिड 255.6 ⇨	आँधी धूल 85 6	घदन 274.20	पिहित
स्मारकः प्रकार सूची 77 13	कफन चोर 864 12	पिसनहार [पिसनहारी]	आच्छादित 592 13
पिरामिड (अं)	घक्रवात 85.10	पिसाई कर्ता 540.22	पींग
पिरामिड 255.6	देव योनि सूची 772.37	पिसना	झोंटा 1034 2
पिरामिडाकृति 976.3	पिशाच 786.8 ⇨	अति परिश्रम करना 493.7	पीजन
पिरामिडाकृति	पिशाच जाति 732 7	संकुचित होना 980.15	धुनकी 562.2
पिरामिडाकृति 976.3 ⇨	भूत 786.1	पिसराज	पीजना
पिरोई	मनुष्य भक्षी 205.7	राजगीर 599.20	धुनना 587.13
पिरोई 573.4 ⇨	शव भक्षी 205.8	पिसबाज	धुनाई कर्मी 567.6
पिरोजन	पिशाच (दे.)	लहंगा 586 12	पीजर
कनछेदन सस्कार 798.16	असुर आदि 783.3	पिसवीया	पिजरा 603 17
मंगलोत्सव 796.1	पिशाच जाति	पिसाई कर्ता 540 22	पीडी
पिरोना	पिशाच जाति 732.7 ⇨	पिसा [पिसी]	लोई 195 15
पिरोना 573.13 ⇨	पिशाच जातीय	दमित 911.14	पीपी
पिरोया [पिरोई]	पिशाच जातीय 732.17 ⇨	पिसा [पिसी] 540.21 ⇨	झीक 388.8
पिरा [पिरी] 573.18	पिशाचला	मदित 911.10	नकनापन 299 17
पिरोहना	असुरता 783.5	पिसाई	पीपी
पिरोना 573.13	पिशाचनी	अति परिश्रम 493.3	बाँसुरी ध्वनि 296.13
	पिशाचिनी 786.9	पिसाई 540.8 ⇨	

## पी

### पी

पति 803 5  
प्रेमपात्र 389 4  
पीआरओ (अं)  
प्रचार कर्मी 442.2  
पीए (अं)  
निजी सचिव 652 24  
पीएस (अं)  
निजी सचिव 652 24  
पीक  
कुहुक 298 11  
पान- पीक 215 23  
पीकदान  
धुकदानी 218 23  
पी कहाँ पी कहाँ  
पीपी 298 17  
पीको  
पीको 571.43 ⇨  
पीको (अं)  
पीको 571 43  
पीघ  
पान- पीक 215 23  
पीघना  
पददलित करना 911.9  
रौंदना 541 8  
पीछ  
नौड़ 208 17  
पीछल  
नौका पृष्ठ 1073.31  
पीछा  
परघभाग 995 6  
पीछा 1096.3 ⇨  
पीछा करना  
पीछा करना 1096.7 ⇨  
पीछा करने वाला  
पीछा करने वाला 1096.12 ⇨  
पीछा कृत  
पीछा कृत 1096.11 ⇨  
पीछा दिखाना  
युद्ध पलायन करना 916.14  
पीछू  
परघत 995 18  
पीछे  
अनिकट भविष्य मे 36.36  
अनुघरत 696 27  
असमक्षत 1022.8  
उत्तर काल मे 60 17  
उपरांत 39.16  
कारणतः 507 7  
दर से 947 30  
परघत 995 18  
पीछे पीछे 1096 15  
पुनः 73.5  
समयोपरांततः 62.25  
सहायता से 700 28  
पीछे का  
उत्तर कालीन 60 13

पीछे की जेब  
डिप पाकिट 672.4  
पीछे कूद  
पीछे कूद 1086.9 ⇨  
पीछे खिचना  
प्रतिकर्षित होना 1051.25  
पीछे खींचना  
प्रतिकर्षित करना 1051.26  
पीछे चलना  
अंधानुगमन करना 345.6  
अनुघर होना 696.22  
पीछे चलना 1096.6 ⇨  
मतानुगामी होना 345 5  
पीछे छूटना  
पीछे छूटना 1095.11 ⇨  
पीछे छूटा  
अधिलंघित 1095.19  
पीछे छोड़ना  
पीछे छोड़ना 1095 10 ⇨  
पीछे छोड़ने वाला  
अधिलंघक 1095.20  
पीछे छोड़ा खिहन  
अनुधिहन 867 6  
पीछे छोड़ी गंध  
अनुगंध 867 7  
पीछे जाना  
पीछे जाना 1095.12 ⇨  
पीछे पीछे  
अनुघरत 696 27  
पीछे पीछे 1096.15 ⇨  
पीछे पीछे खींचना  
अनुकर्षण करना 1051 23  
पीछे रह जाना  
पीछे छूटना 1095.11  
पीछे लगना  
पीछा करना 1096.7  
पीछे से आगे  
अवरोहतः 991.30  
पीछे हटना  
पीछे हटना 916.15 ⇨  
पीछे हटना: कर्म  
पीछे हटना: कर्म 916.6 ⇨  
पीछे हटने वाला  
पीछे हटने वाला 916.24 ⇨  
पीछे हटाना  
सिकोड़ना 980 18  
पीछे होना  
पीछे चलना 1096.6  
पीछे छूटना 1095 11  
पीछे होना 995.9 ⇨  
पीछा  
पीछा 202.24 ⇨  
पी जाना  
पूरा खा जाना 181.34  
पीट  
आघात वर्धन 545.6  
ठोक 1051.15  
पिटार्ई 918.9

### पीटना

अर्जित करना 648.4  
आघात वर्धित करना 545.23  
कूटना 540.9  
जीतना 912.12  
ठोकना 1051.30  
पिटार्ई करना 918.23  
रिघट करना 1016.40  
पीटीओ (अं)  
व्यायाम प्रशिक्षक 485 3  
पीटू  
पिटैल 918.35  
पीठ  
आधार 596 1  
आधार सूची 596 2  
आसन 595.2  
उपदेश मंच 745.42  
गृह 601.1  
दुकानदार: आसन 595 6  
परघभाग 995.6  
पीठ 147.8 ⇨  
पीठ 585 75 ⇨  
पीठाश्रय 596 29  
पोत रीढ़ 1073 37  
प्रधान कार्यालय 654.5  
मठ 745 7  
मूर्ति: आधार 406.2  
शिक्षालय विभाग 321.15  
पीठ करनी  
विमुख होना 1023.6  
पीठ की ओर  
परघतः 995.18  
पीठ के बल सोना  
पीठ के बल सोना 1027.11 ⇨  
पीठ गद्दी  
कंधेली 595.49  
पीठ: टेक  
पीठाश्रय 596.29  
पीठ ठोकना  
शाबाशी देना 841.28  
पीठ दिखाना  
पलायन करना 916.10  
युद्ध पलायन करना 916.14  
पीठ देवता  
आजान देवता 772.15  
पीठ न दिखाना  
प्रतिरोध करना 915 4  
पीठ पर हान्य फैरना  
पृष्ठ भाग स्पर्श करना 714.8  
शाबाशी देना 841.28  
पीठ पर हान्य रखना  
पृष्ठ भाग स्पर्श करना 714.8  
सख्खणपूर्ण सहायता करना 700.18  
पीठ पर हान्य रखने वाला  
सख्खणपूर्ण सहायक 700.27  
पीठ: पल्ला  
पीठ: पल्ला 585.73 ⇨

### पीठ पीछे

असमक्षतः 1022.8  
पीठ फेरना  
विमुख होना 1023.6  
पीठ फेरे  
विमुखतः 1023.16  
पीठमर्द  
नर्म सचिव 467.17  
वेश्या दलाल 807.9  
पीठ मर्दिका  
दूती 467.16  
पीठ विषयक  
पृथ्वीय 147.12  
पीठसर्पी  
लंगडा लूला 153.20  
पीठ स्थितिर  
रजिस्ट्रार 323.17  
पीठा  
पीठा 595 19  
पीठाधिकारी  
मठाधीरा 744.1  
पीठाधीरा  
मठाधीरा 744.1  
पीठाध्यक्ष  
विभागाध्यक्ष 323.20  
पीठाध्यय  
पीठाश्रय 596.29 ⇨  
पीठिका  
आसन 595.2  
परघमूर्ति 995.5  
पूर्व पीठिका 466.17  
प्रधान कार्यालय 654.5  
बैकग्राउंड 404.22  
मूर्ति: आधार 406.2  
पीठिका पदार्पण  
मंदिर प्रतिष्ठापना 598.7  
पीठी  
पीठी 192.13 ⇨  
पीठी पूरी  
कचौरी 202.28  
पीठी मछली  
राफरी 125.12  
पीड़  
दाब 989.4  
पीड़क  
उत्पीड़क 391.29  
निष्कर्षक 83.15  
पीड़ाप्रद 392.26  
पीड़कता  
निर्दयता 835.2  
पीड़क  
उत्पीड़क 391.29  
पीड़न  
उत्पीड़न 391.10  
दबाई 989.5  
निष्कर्षण 83.1  
मसलाई 541.2  
रींदाई 541.4

**पीडनोन्माद**  
उत्पीडनोन्माद 353.19  
**पीडम्बुवी (बीज नाम)**  
निर्माण विभाग 599.7  
**पीडा**  
कष्ट 392.1  
ग्रहबाधा 261.26  
दुःख 391.1  
मनोव्यथा 391.7  
रोग 163.1  
शारीरिक पीडा 392.4  
**पीडागृह**  
यंत्रणा गृह 391.16  
**पीडाग्रस्त**  
पीडाग्रस्त 392.28 ⇨  
**पीडा देना**  
उत्पीडित करना 391.20  
कष्ट देना 392.16  
**पीडा नाराक**  
पीडाहर 392.27  
**पीडा पहुँचाना**  
उत्पीडित करना 391.20  
**पीडाप्रद**  
उत्पीडक 391.29  
पीडाप्रद 392.26 ⇨  
**पीडाहर**  
पीडाहर 392.27 ⇨  
**पीडा हरण**  
पीडा हरण 392.15 ⇨  
**पीडा होना**  
पीडा होना 392.18 ⇨  
**पीडिएट्री (अँ)**  
शिशु चिकित्सा 173.10  
**पीडिएट्रीशियन (अँ)**  
शिशु चिकित्सक 173.11  
**पीडित**  
उत्पीडित 391.28  
दयनीय 834.16  
दुःखी 391.24  
पीडाग्रस्त 392.28  
मसला [मसली] 541.12  
रूँदा [रूँदी] 541.13  
रोगग्रस्त 162.5  
**पीडित करना**  
उत्पीडित करना 391.20  
**पीडित: पुकार**  
आर्तनाद 386.3  
**पीडीएट्रिक्स (अँ)**  
शिशु चिकित्सा 173.10  
**पीडा**  
पीडा 595.19 ⇨  
**पीडियाँ से**  
अनुबंधातः 727.44  
**पीडी**  
दीर्घ काल 37.5  
दुकानदारः आसन 595.6  
पीडी 595.20 ⇨  
पीडी 727.27 ⇨

**पीकी वर पीकी**  
अनुबंधातः 727.44  
**पीत**  
आपानित 207.19  
गंधक 92.8  
पीला 289.54  
पुखराज 96.14  
स्यर्ण 95.4  
**पीतक**  
अज्ञात राशि 952.8  
अशोक 13.4  
**पीत कावेर**  
घंटं घातु 94.4  
**पीत ग्रह**  
पीत ग्रह 7.14 ⇨  
सौर मंडलः ग्रह सूची 7.4  
**पीत चंदन**  
हलदी 281.38  
**पीतला**  
पीतिमा 289.16  
**पीत दारु**  
देवदारु 13.10  
**पीतद्रु**  
चीड़ 13.7  
**पीत धातु**  
गोपी चंदन 100.14  
**पीत नील**  
हरा 289.69  
**पीतपुष्पा**  
तोरी 189.23  
**पीतबीजा**  
मेथी 281.28  
**पीतम**  
पति 803.5  
प्रेमपात्र 369.4  
प्रेमी 368.2  
**पीत मणि**  
पुखराज 96.14  
**पीतम प्यारा**  
प्रेमपात्र 369.4  
**पीतम प्यारी**  
प्रेमपात्रा 369.5  
**पीतमा**  
प्रेमिका 368.3  
**पीत माक्षिक**  
सोनामाखी 92.11  
**पीतराग**  
मोम 110.22  
**पीतल**  
पीतल 94.10 ⇨  
**पीतल कलशा**  
पीतल घट 679.8  
**पीतल कसीस**  
पीतल कसीस 214.9 ⇨  
**पीतल घट**  
पीतल घट 679.8 ⇨  
**पीतल बरतन**  
पीतल बरतन 680.16 ⇨

**पीत लोह**  
पीतल 94.10  
**पीतस**  
पीतस 724.13 ⇨  
**पीतसारा**  
पीतसारा 724.12 ⇨  
**पीतसारा: पत्नी**  
पीतस 724.13  
**पीतसार**  
नीम 13.12  
**पीतांबर**  
कृष्ण 771.1  
नट 473.10  
पीला वस्त्र 578.21  
विष्णु 768.1  
**पीतांबरा**  
बगलामुखी 774.55  
**पीता**  
हलदी 281.38  
**पीताम**  
पीला 289.54  
**पीति**  
जल ग्रहण 207.9  
पान कर्म 207.1  
**पीतिमा**  
पीतिमा 289.16 ⇨  
**पीत्सा**  
पीजा 202.24  
**पीथ**  
घी 196.7  
**पीन**  
बृहत 979.15  
भारी 963.13  
मांसल 154.33  
मोटा [मोटी] 965.12  
स्थूलकाय 154.29  
**पीनक**  
तद्मा 266.8  
मद पीनक 211.3  
**पीनकी**  
अफीमची 212.12  
म्फेहीन 492.14  
**पीनसा**  
बलिष्ठता 160.1  
बृहसा 979.1  
भारीपन 963.4  
मांसलता 154.12  
मोटाई 965.8  
सघनता 81.2  
**पीनना**  
धुनना 567.13  
**पीन पयोधर**  
उभरा स्तन 158.5  
**पीनपयोधरा**  
उभरे स्तन वाली 158.26  
**पीमल कोड (अँ)**  
दंड संहिता 878.10

**पीनस**  
पालकी 1071.24  
**पीनसा**  
ककड़ी 190.12  
**पीना**  
अवशोषित करना 1002.20  
पीना 207.16 ⇨  
प्यास मिटाना 180.14  
मद्यपान करना 209.40  
सहन करना 872.9  
**पीना: कर्म**  
पान कर्म 207.1  
**पीनिया**  
धुनाई कर्मी 567.6  
**पीने की दवा**  
निवर्धर 176.23  
**पीने वाला**  
आपान कर्ता 207.20  
मद्यपायी 209.42  
मद्य रसिक 209.43  
**पीप**  
पूय 167.16  
**पीपनी**  
पीपनी 480.12 ⇨  
**पीप पखना**  
पूरित होना 169.12  
**पीपर**  
गज पिप्पली 281.14  
पीपल 13.14  
**पीपल**  
नगर वृक्ष सूची 13.2  
पीपल 13.14 ⇨  
**पीपली**  
गज पिप्पली 281.14  
पीपल 13.14  
**पीपहोल**  
पीपहोल 608.18 ⇨  
**पीपहोल (अँ)**  
पीपहोल 608.18  
**पीपा**  
पीपा 678.13 ⇨  
पीपा 959.53 ⇨  
सेतुबध नौका 1072.33  
**पीपी**  
पीपी 298.17 ⇨  
पीपी 461.62 ⇨  
बाँसुरी ध्वनि 296.13  
सीटी ध्वनि 296.15  
**पीपी (अँ)**  
पोस्ट बाक्स 444.16  
**पीय**  
पति 803.5  
प्रेमी 368.2  
**पीय पीय**  
पीपी 298.17  
**पीयूष**  
अमृत 177.1  
दूध 193.2

## पीयूषक

प्रसव सात रात तक दूध 193.3  
**पीयूषक**  
 पीयूषिद 132 15  
**पीयूष ग्रंथि**  
 पीयूषिद 132.15  
**पीयूष भोजी**  
 देवता 772 1  
**पीयूषिद**  
 पीयूषिद 132 15 ⇌  
**पीर**  
 अति अनुभवी 303.18  
 कष्ट 392 1  
 कुटिल 818 7  
 गुरु 323 1  
 दुःख 391 1  
 पीर 744 18 ⇌  
 प्रवीण 303 22  
 बुद्धिमान 301 21  
 रोज़ा 745 19  
 वृद्ध पुरुष 232 4  
 शारीरिक पीड़ा 392 4  
 साधु 790 16  
 सोमवार 46 4  
**पीर पंजाल पर्वत माला**  
 भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1  
**पीर पराई**  
 परव्याथा 391 9  
**पीर बावर्ची मिरती ख़र**  
 सर्वसर्वा 652 12  
**पीर भाई**  
 गुरुभाई 323 28  
**पीर भुरशिद**  
 धर्म शिक्षक 742 21  
 पीर 744 18  
**पीर नीला**  
 इसलामी साधु 790 23  
**पीरान**  
 धर्मार्थ भूमि 553 7  
**पीरियड (अँ)**  
 अध्ययन घंटा 322 7  
**पीरियडिकल (अँ)**  
 पत्रिका 445 2  
**पीरी**  
 धर्मतंत्र 881 14  
 धर्मतंत्रवाद 884 5  
 वृद्धता 232 2  
**पीरे तरीक़त**  
 सूफ़ी पीर 744 19  
**पीरे मुर्गी**  
 पारसी धर्माधिकारी 744.37  
**पील**  
 रेशम कोया 242.3  
**पीलवान**  
 महायत 1082 15  
**पीला**  
 पीला 289 54 ⇌  
 वर्णाली रंग सूची 289.9

**पीला [पीली]**  
 पीला 289 54  
 रुधिरहीन 131 18  
 वसत कालीन 52 3  
 विवर्ण 291 18  
**पीला नीला [पीली नीली]**  
 हरा 289.69  
**पीला पक़ना**  
 विवर्ण होना 291 10  
**पीलापान**  
 पीतिमा 289 16  
**पीला वस्त्र**  
 पीला वस्त्र 578.21 ⇌  
**पीला सफ़ेद**  
 पादुर 289 53  
**पीला सैफ़ायर**  
 पुखराज 96 14  
**पीसिया**  
 पीसिया 163 37 ⇌  
**पीली चिट्ठी**  
 विवाह निमंत्रण पत्र 1056 3  
 विवाह पत्र 799 38  
**पीली जाति**  
 पीली जाति 730.10 ⇌  
**पीली बत्ती**  
 नारंगी बत्ती 1067 16  
**पीली मिट्टी**  
 दोमट 100 17  
 पीली मिट्टी 100 20 ⇌  
**पीली सरसों**  
 ओझा उपकरण सूची 759 12  
**पीलु**  
 ताड़ कुज 12 24  
 परमाणु 78 10  
 पुष्प 115 6  
 हाथी 127.38  
**पीलुक**  
 चींटा 122 21  
**पीलू**  
 राग रागिनी सूची 457 24  
**पीय**  
 पति 803 5  
 पूय 167 16  
 प्रेमपात्र 369 4  
 प्रेमी 368 2  
**पीवन**  
 जल ग्रहण 207 9  
 पान कर्म 207.1  
**पीवर**  
 बृहत 979 15  
 भारी 963 13  
 मांसल 154 33  
 स्थूलकाय 154 29  
**पीवरस्तनी**  
 उमरे स्तन वाली 158.28  
**पीवरी**  
 गाय 127.10  
 प्रेमपात्रा 369.5

**पीस**  
 पिसाई 540.6  
**पीस (अँ)**  
 कलाकृति 397.20  
 वस्त्र कटपीस 579.23  
 शांति 372 1  
**पीसना**  
 अत्याचार करना 835.6  
 घोटना 540 11  
 चूरा करना 540.8  
 पददलित करना 911 9  
 पीसना 540 14 ⇌  
 मर्दन करना 911 6  
**पीसा [पीसी]**  
 पिसा [पिसी] 540 21  
**पीसी (अँ) (बीज रूप)**  
 पर्सनल कंप्यूटर 951 2  
 पारसैक 959 30  
**पीहर**  
 पिता पक्ष 722 3  
 पीहर 601 8 ⇌  
**पुंख**  
 बाण पृष्ठभाग 926 19  
**पुंगल**  
 आत्मा 763.1  
**पुंगव**  
 उत्तमता उपमान सूची 313 4  
 बैल 127 13  
**पुंछल्ला [पुंछली]**  
 पिछलग्गू 1096 13  
**पुंछाई**  
 अगोछ 221 15  
 झाड़ पोछ 218 5  
**पुंज**  
 ढेर 696 6  
 राशि 686 2  
 समूह 690.1  
**पुंजन**  
 केद्रण 971 7  
 सपुंजन 288 4  
**पुंजन्म**  
 पुत्र प्राप्ति 239.7  
**पुंजिकस्थली**  
 अप्सरा सूची 782.3  
**पुंजिकस्थली अप्सरा (पूर्वजन्म)**  
 अजना 781.20  
**पुंजित**  
 केद्रित 971.21  
 संपुंजित 288 10  
 संराशित 667 16  
**पुंजीय**  
 राशि विषयक 686.21  
**पुंजरीक**  
 कमल 14 4  
 घड़ा 679.1  
 दिग्गज सूची 780.3  
 दोना 683.12  
 राजछत्र 408.13

विट्ठल अवतार 769.12  
 श्वेत कमल 14.7  
 सर्प सूची 123 16  
**पुंजरीकाम**  
 विष्णु 768 1  
**पुंजर्व**  
 वृक्ष 111 18  
**पुंज**  
 तिलक 225 19  
 दैत्य सूची 783 19  
 वानर सूची 781.7  
 श्वेत कमल 14 7  
**पुंज (वसुदेव पुंज?)**  
 जरा व्याघ 771 57  
**पुंजल**  
 महापुरुष 839 3  
**पुंजलिंग**  
 पुंजलिंग 425 50 ⇌  
**पुंजत**  
 पुंसक 238 13  
**पुंजघल**  
 व्यभिचारी 806 10  
**पुंजघली**  
 कामुकी 237 15  
 वैश्या 807 5  
 व्यभिचारिणी 806 11  
**पुंसक**  
 पुंसक 238 13 ⇌  
**पुंसकता**  
 पुंसकता 238 2 ⇌  
**पुंसकतापूर्ण**  
 पुंसक 238 13  
**पुंसत्वहीन**  
 नपुंसक 238 18  
**पुंसवती**  
 पुंसवती 239 12  
**पुंसवन**  
 पुंसवन संस्कार 798 6  
 सोलह संस्कार सूची 798 3  
**पुंसवन यज्ञ**  
 पुंज्रेष्टि यज्ञ 239.5  
**पुंसवन संस्कार**  
 पुंसवन संस्कार 798.6 ⇌  
**पुंसवान**  
 पुंसवान 239.11  
**पुंसव**  
 पुंसकता 238.2  
**पुंसवपूर्ण**  
 पुंसक 238 13  
**पुंसवहरण**  
 नपुंसीकरण 238.8  
**पुंसवहीन**  
 नपुंसक 238.18  
**पुंसवहीनता**  
 नपुंसकता 238.4  
**पुआ**  
 पकोड़ा 200.19  
 पुआ 203.20 ⇌



पूका 200 20  
**पुआल**  
 सूखा डठल 114 4  
**पुकार**  
 अज्ञान 751.9  
 आवाहन 1055 1  
 फरियाद 350 9  
 वशी तान 458 16  
 सबोधन 430 10  
**पुकार कर**  
 धुनीतीपूर्वक 917 11  
**पुकारना**  
 आवाहन करना 1055 7  
 धुनीती देना 9 7 4  
 फरियाद करना 350 14  
**पुकारने वाला**  
 आवाहन कर्ता 1055 10  
**पुकारा [पुकारी]**  
 आवाहित 1055 11  
**पुक्कश**  
 चाडाल 254 10  
**पुक्कशी**  
 काली जाति 730 9  
**पुखता**  
 धैर्यशील 394 15  
**पुखराज**  
 पुखराज 96.14 ⇌  
**पुख्त**  
 सुदृढ़ 160 15  
**पुख्तागी**  
 अनश्वरता 37 3  
**पुख्तागी**  
 धैर्य 394 6  
**पुख्ता**  
 अनुभवी 303.17  
 तय (सौदा) 658 14  
 दीर्घ कालीन 37 10  
 दृढकाय 160.12  
 दृढप्रतिष्ठा 339.45  
 सुदृढ़ 160.15  
 सुनिर्धारित 328.17  
**पुगाना**  
 कार्य समापन करना 522.3  
**पुघकार**  
 जोत यान चालन 1079.3  
 पुघकार 393.8 ⇌  
 लाड़ प्यार 721.6  
**पुघकारना**  
 जोत यान चलाना 1079.18  
 पुघकारना 393.14 ⇌  
**पुघकारी**  
 पुघकार 393.8  
 लाड़ प्यार 721.6  
**पुघ पुघ**  
 पुघकार 393.8  
**पुघारना**  
 पोतना 291.8  
 लीपना पोतना 218.27

**पुघारा**  
 आलोपन 292 3  
 उल्लाप 435 11  
 मनुहार 374 6  
**पुघ**  
 नौका पृष्ठ 1073 31  
 पशु पृष्ठ 151 10  
**पुघकंटक**  
 बिघ्नू 122 31  
**पुघछल**  
 पुघछल 151 20 ⇌  
**पुघछल तारा**  
 धूमकेतु 3 9  
**पुघ्छीय**  
 पुघ्छीय 151 19 ⇌  
**पुघल्ला**  
 पशु पृष्ठ 151 10  
**पुघल्ला [पुघल्ली]**  
 अनुचर 696 16  
 पिछलग्गू 1096 13  
**पुघधैया**  
 कुशल प्रश्न कर्ता 710 25  
**पुघिया**  
 दुबा 127 26  
**पुजना**  
 सफल होना 512 3  
**पुजाई**  
 पूजा 751 1  
**पुजाना**  
 कार्य समापन करना 522 3  
**पुजापा**  
 पूजा सामग्री 750.1  
 बलि वस्तु 754 2  
**पुजाया**  
 पूजा सामग्री पात्र 750 2  
**पुजारिन**  
 पुजारिन 744.8 ⇌  
**पुजारी**  
 ईश्वर पूजक 751 5  
 पादरी 744 29  
 पुजारी 744.7 ⇌  
 पूजक 751 3  
 भक्त 790 6  
**पुजारीवाद**  
 पुरोहितवाद 760 19  
**पुजारी**  
 पूजा सामग्री 750 1  
 पूजा सामग्री पात्र 750.2  
**पुजैला**  
 पुजारी 744.7  
**पुजैया**  
 पुजारी 744 7  
 पूजक 751.3  
**पुजौरा**  
 पूजा 751.1  
 पूजा सामग्री 750 1  
**पुट**  
 अंजलि पुट 150.4

छप्पर 615 1  
 ढक्कन 675.6  
 तह 975 15  
 पलक 141.13  
 पिधान 675 3  
 पुट 1008 6 ⇌  
 रग झलक 289 4  
 सादृश्य आभास 309 4  
**पुटक**  
 पुट. 1008 6  
**पुटक भर**  
 पुट मात्र 1008 25  
**पुटकी**  
 आलन 201 25  
 पुडिया 674 6  
 महा संकट 909 2  
**पुटग्रीव**  
 घातु घट 679 6  
**पुट ताच**  
 सूक्ष्म मात्रिक तत्त्व 1008 8  
**पुट पोषक**  
 सूक्ष्म पोषक 179 19  
**पुट मात्र**  
 अत्यल्पत 942 24  
 पुट मात्र 1008 25 ⇌  
**पुटमात्र पोषक**  
 सूक्ष्म पोषक 179.19  
**पुट मिश्रण**  
 पुट मिश्रण 1008 5 ⇌  
**पुटलिया**  
 गतरी 674 2  
**पुटिका**  
 कैप्सूल 176 13  
 पुडिया 674 6  
**पुटित**  
 मुकुलित 120 8  
 सिकुड़ा [सिकुड़ी] 980 28  
**पुटी**  
 कैप्सूल 176 13  
 पुटी 134 3 ⇌  
 पुडिया 674 6  
**पुटीन**  
 घेपव्य सूधी 1012 4  
**पुट्ठा**  
 नितंब 148.13  
 पुरत 418.8  
 स्नायु 131 13  
**पुट्ठे ठोकना**  
 अखाड़े में उतरना 486.23  
 पुट्ठे ठोकना 917.8 ⇌  
**पुका**  
 तबला चमका 461.101  
 पुडिया 674.6  
**पुडिया**  
 पुडिया 674.6 ⇌  
**पुडी**  
 तबला चमका 461 101  
 पुडिया 674.6

**पुडुधैरी**  
 पांडिचेरी 28 50  
**पुण्य**  
 कल्याणकारी 710 21  
 दान 641 1  
 धर्मार्थ दान 641 8  
 पशु पानी का हीज 18 16  
 पुण्य 814 1 ⇌  
**पुण्य कमाना**  
 पुण्य करना 814 3  
**पुण्य करना**  
 पुण्य करना 814.3 ⇌  
**पुण्य कर्ता**  
 पुण्य कर्ता 814 5 ⇌  
**पुण्य कर्म**  
 पुण्य 814 1  
**पुण्यकर्मा**  
 पुण्य कर्ता 814 5  
**पुण्यकीर्ति**  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767 1  
**पुण्य क्षेत्र**  
 तीर्थ स्थान 1089 10  
**पुण्यगृह**  
 आहार वितरण केंद्र 183 31  
**पुण्य ग्रह**  
 शुभ ग्रह 261 15  
**पुण्यजन**  
 पिशाच 786 8  
 यक्ष 779 1  
 राक्षस 784 1  
**पुण्यजनी**  
 यक्षिणी सूधी 779 14  
**पुण्यजनेश्वर**  
 कुबेर 779 4  
**पुण्य दर्शन**  
 पुण्य दर्शन 749 37  
**पुण्यदर्शन**  
 नीलकंठ 126 46  
 शिव 767 1  
 सुंदर 157 7  
**पुण्य दिवस**  
 पुण्य दिवस 58.3 ⇌  
**पुण्यपूर्ण**  
 पुण्यपूर्ण 814.4 ⇌  
**पुण्य प्रताप**  
 पुण्य फल 260 11  
**पुण्य फल**  
 पुण्य फल 260.11 ⇌  
**पुण्यबुद्धि**  
 सदाशय 817.10  
**पुण्यभू**  
 पुत्रवती स्त्री 236.10  
**पुण्य भूमि**  
 पवित्र स्थान 745 1  
 भारत 28 1  
**पुण्य योग**  
 पुण्य फल 260.11

## पुण्य लोक

**पुण्य लोक**  
स्वर्ग 259 1  
**पुण्यवान** [पुण्यवती]  
पुण्य कर्ता 814.5  
**पुण्यशकुन**  
कल्याण सूचक 710 22  
**पुण्य शकुन**  
शुभ शकुन 262 2  
**पुण्यशील** [पुण्यशीला]  
पुण्य कर्ता 814 5  
**पुण्यश्लोक**  
युधिष्ठिर 771 80  
**पुण्यश्लोका**  
गंगा नदी 20 10  
द्रोपदी 771 64  
सीता 770 66  
**पुण्य स्थल**  
तीर्थ स्थान 1089 10  
**पुण्य स्थली**  
पवित्र स्थान 745 1  
**पुण्या**  
तुलसी 13 9  
**पुण्यात्मा**  
धर्मशील 735 13  
पुण्य कर्ता 814 5  
**पुण्याह**  
मंगल दिवस 796 4  
व्याहृति सूची 741 24  
**पुतरिका**  
पुतली 406 6  
**पुतला**  
गुड्डा 480 6  
पुतला 406 5 ⇌  
**पुतली**  
कठपुतली 473.5  
गुड्डिया 480.7  
नेत्र पुतली 141 5  
पुतली 406.6 ⇌  
**पुतली घर**  
कताई यत्र 562 5  
कपडा मिल 576 16  
**पुतली नाटक**  
कठपुतली खेल 473 4  
**पुतली: मध्य बिंदु**  
कोर्निया 141 8  
**पुतली बाला**  
कठपुतली बाला 473 7  
**पुता [पुती]**  
घृना पुता 291 20  
पुता [पुती] 291.19 ⇌  
**पुताई**  
पुताई 291 4 ⇌  
**पुताई करना**  
पोतना 291 8  
**पुताई कर्ता**  
पुताई कर्ता 291 13 ⇌  
**पुता भवन**  
पुता भवन 602.11 ⇌

**पुतलक**  
पुतला 406 5  
**पुतल पूजा**  
मूर्ति पूजा 751 7  
**पुतलिका**  
कठपुतली 473 5  
पुतली 406.6  
**पुत्र**  
पुत्र 718 3 ⇌  
**पुत्र (शब्दार्थ)**  
मूसा 791 23  
**पुत्रक**  
गुड्डा 480 6  
पुत्र 718 3  
**पुत्र कलत्र**  
बीदी बच्चे 726 11  
**पुत्रकल्प**  
पुत्रतुल्य 720 23  
**पुत्र कामेष्टि यज्ञ**  
पुत्रेष्टि यज्ञ 239 5  
**पुत्र का विवाह करना**  
पुत्र का विवाह करना 799.46 ⇌  
**पुत्र जन्म**  
पुत्र प्राप्ति 239 7  
**पुत्रतुल्य**  
पुत्रतुल्य 720 23 ⇌  
**पुत्र: पुत्री**  
पोती 722 15  
**पुत्र पुत्री**  
संतान 718 1  
सतान समष्टि 718.2  
**पुत्र पीत्र**  
संतान समष्टि 718 2  
**पुत्र पीत्र [पुत्री पीत्री]**  
बेटा पोता [बेटी पोती] 722.12  
**पुत्र प्रतिनिधि**  
अभिपुत्र 720.15  
दत्तक पुत्र 718.6  
**पुत्र प्रवर**  
बका पुत्र 718.8  
**पुत्र प्राप्ति**  
पुत्र प्राप्ति 239.7 ⇌  
**पुत्र प्राप्ति कामना संस्कार**  
पुंसवन संस्कार 798 6  
**पुत्र ब्याहना**  
पुत्र का विवाह करना 799 46  
**पुत्र: माता**  
पुत्र माता 717.8 ⇌  
**पुत्र या पुत्री: सक्षुर**  
समधी 724 4  
**पुत्र या पुत्री: सक्षुराल**  
समधियाना 724.3  
**पुत्र या पुत्री: सास**  
समधिन 724.5  
**पुत्र लाभ**  
पुत्र प्राप्ति 239 7  
**पुत्रवंती**  
पुत्र: माता 717 8

**पुत्रवती**  
पुत्र: माता 717.8  
पुत्रवती 239.12 ⇌  
**पुत्रवती स्त्री**  
पुत्रवती स्त्री 236.10 ⇌  
**पुत्र वधु**  
पुत्र वधु 724.24 ⇌  
**पुत्र वधु लाना**  
पुत्र का विवाह करना 799.46  
**पुत्रवान**  
पुत्रवान 239.11 ⇌  
**पुत्रस्थानीय**  
अभिपुत्र 720 15  
**पुत्रहीन**  
पुत्रहीन 240.10 ⇌  
**पुत्रहीन [पुत्रहीना]**  
पुत्रहीन 240.10  
**पुत्रहीन विधवा**  
पुत्रहीन विधवा 804.17 ⇌  
**पुत्रहीन स्त्री**  
पुत्रहीन स्त्री 236.11 ⇌  
**पुत्राभाव**  
पुत्रावली 648 14  
**पुत्रावली**  
पुत्रावली 648.14 ⇌  
**पुत्रिका**  
नेत्र पुतली 141 5  
**पुत्रिणी**  
पुत्रवती 239 12  
पुत्रवती स्त्री 236.10  
**पुत्री**  
दुर्गा 776.7  
पुत्री 718.10 ⇌  
मुनियों 126.63  
**पुत्रीकल्प**  
पुत्रीतुल्य 720.24  
**पुत्री का विवाह करना**  
पुत्री का विवाह करना 799.47 ⇌  
**पुत्रीतुल्य**  
पुत्रीतुल्य 720.24 ⇌  
**पुत्री प्राप्ति**  
पुत्री प्राप्ति 239.8 ⇌  
**पुत्री विवाह**  
पुत्री विवाह 799.7 ⇌  
**पुत्रीस्थानीय**  
अभिपुत्री 720.16  
**पुत्रेष्टि यज्ञ**  
पुत्रेष्टि यज्ञ 239.5 ⇌  
यज्ञ सूची 753.2  
संतान प्राप्ति यज्ञ सूची 239.4  
**पुदीना**  
पुदीना 281.23 ⇌  
साग सक्ती सूची 189.4  
**पुदीना पानी**  
पुदीना पानी 208.15 ⇌  
**पुद्गल**  
आत्मा 783.1  
जीव द्रव्य 129.1

तत्त्व 78.6  
परमाणु 78.10  
शिव 767 1  
**पुद्गलीय**  
तत्त्वीय 78 24  
**पुनः**  
नवतः 532.24  
पुनः 73.5 ⇌  
**पुनः आगमन**  
पुनरागमन 1093.5  
**पुनः आश्रुति**  
पुनराश्रुति 73 1  
**पुनः कथन**  
अनुलाप 435 9  
पुनरुक्ति 434 6  
**पुनः क्षितिन**  
मत परिवर्तन 344 3  
**पुनः पुनः**  
पुनः 73 5  
**पुनः पीनिकता**  
पुनरावर्तिता 73 2  
**पुनः प्रतिष्ठा**  
पुनस्थापना 1036 7  
**पुनः प्राप्ति**  
प्रतिलब्धि 863.3  
**पुनः जीवन प्राप्ति**  
कायाकल्प 172.18  
**पुनः स्मरण**  
स्मृति लाभ 356 10  
**पुनः स्मृत**  
पुनः स्मृत 356.26 ⇌  
**पुनम**  
पृष्णिमा 44 24  
**पुनरंगीकरण**  
पुनरंगीकरण 870.15 ⇌  
**पुनरपि**  
पुनः 73.5  
**पुनरवतरण**  
पुनर्जन्म 248.7  
**पुनरवतारित**  
पुनर्जन्मा [पुनर्जन्मी] 248.11  
**पुनरवलोकन**  
सिंहावलोकन 330.10  
**पुनराक्रय**  
पुनराक्रय 860.9 ⇌  
**पुनरागत**  
पुनरागत 1093.16 ⇌  
**पुनरागमन**  
पुनरागमन 1093.5 ⇌  
**पुनरागमन करना**  
फिर आना 1093.10  
**पुनरागमन वादी**  
रेडवैटिस्ट 736 :9  
**पुनराजयन**  
पुनराजयन 1053.4 ⇌  
**पुनरानीत**  
पुनरानीत 1053.15 ⇌



## पुरजोश

परया 938 28  
यत्र अवयव 558 18  
**पुरजोश**  
उत्साही 491 11  
**पुरतः**  
समक्षत 1021 11  
**पुरनम**  
अश्रुपूर्ण 387 7  
**पुरना**  
पर्याप्त होना 941 5  
व्याप्त होना 981 8  
**पुर नारी**  
येरया 807 5  
**पुर नाशक**  
पुर नाशक 531 9 ⇌  
**पुर निवेश**  
बस्ती निर्माण 599 5  
**पुरबिया (हवा)**  
पूर्व भारतीय 28 78  
**पुरबिया हवा**  
पूर्व पवन 85 22  
**पुरबैया**  
पूर्व भारतीय 28 78  
**पुर मार्ग**  
सड़क 1063 33  
**पुर रक्षक**  
पुलिस 866 1  
**पुररक्षी**  
पुलिस 866 1  
**पुरयट**  
घरसा कुआँ 19 11  
**पुरवा**  
कुल्हड़ 684 7  
छोटा ग्राम 620 4  
पूर्व पवन 85 22  
महल्ला 619 6  
**पुरवाई**  
पूर्व पवन 85 22  
पूर्व भारतीय 28 78  
**पुरवासिनी**  
नगर वासिनी 616 25  
**पुरवैया**  
पूर्व पवन 85 22  
पूर्व भारतीय 28 78  
**पुरसना**  
परोसना 183 35  
**पुरसौ**  
कुशल प्रश्न कर्ता 710 25  
**पुरसा**  
पुरसा 958.23 ⇌  
**पुरसाई**  
परोस 183 19  
**पुरस्करण**  
अग्रकरण 1095.2  
पुरस्करण 857.2 ⇌  
**पुरस्कर्ता**  
पुरस्कर्ता 857.24 ⇌

**पुरस्कार**  
पारिश्रमिक 643 8  
पुरस्कार 857 1 ⇌  
प्रतिफल 510 3  
**पुरस्कार (दे.)**  
बख्शीश 640 8  
**पुरस्कार चषक**  
कप 857 16  
**पुरस्कार दाता**  
पुरस्कर्ता 857 24  
**पुरस्कार देना**  
पुरस्कार देना 857 22 ⇌  
**पुरस्कार प्रदान**  
पुरस्करण 857 2  
**पुरस्कार प्राप्ता**  
पुरस्कृत 857 23  
**पुरस्कृत**  
अग्र 994 18  
अग्रकृत 1095 15  
पुरस्कृत 857.23 ⇌  
**पुरस्क्रिया**  
पुरस्करण 857 2  
**पुरस्तात**  
आगे आगे 1096 14  
आरंभ में 994 20  
पूर्वत 60 19  
**पुररथ ग्रंथि (प्र)**  
पीरुषिद 132 13  
**पुरस्तरण**  
पुरोगमन 1096 1  
प्रगति 1095 1  
**पुरस्त्तरण**  
अग्रकरण 1095 2  
**पुरहा**  
घरसा चालक 19 23  
शिव 767 1  
**पुरातक**  
शिव 767 1  
**पुरा**  
अग्रत 994 22  
आरंभ में 994 20  
घरसा कुआँ 19 11  
छोटा ग्राम 620 4  
पूर्व काल में 60 18  
प्रथमत 505 38  
महल्ला 619 6  
सुदूर भूत में 36 32  
**पुरा अवशेष**  
पुरा अवशेष 77.2 ⇌  
**पुरा आवासक**  
पुरा आवासी 618 26  
**पुरा आवासी**  
पुरा आवासी 618.26 ⇌  
**पुरा इतिहास**  
प्रागितिहास 76.3  
**पुराई**  
भराई 1004.1

**पुरा ऐतिहासिक**  
प्रागितिहासिक 76 11  
**पुराकथा**  
इतिहास 76 1  
**पुरा कथा**  
पुरा कथा 450 13 ⇌  
**पुराकथा**  
पुराण 740 15  
लोक कथा 450 7  
**पुरा कर्म**  
पूर्व कर्म 260 8  
**पुराकल्प**  
पुरा काल 76 6  
**पुराकाल**  
पुरा काल 76 6  
**पुरा काल**  
पुरा काल 76.6 ⇌  
**पुराकालीन**  
प्राचीन 63 6  
**पुराकालीनता**  
प्राचीनता 63 1  
**पुराकृत**  
पूर्व कर्म 260 8  
**पुराख्यान**  
पुरा कथा 450 13  
**पुराण**  
अठारह उपमान सूची 948.53  
पुराण 740 15 ⇌  
येदोपागसूची 740 43  
शिय 767.1  
**पुराणः उप पुराण**  
उप पुराण 740 16  
**पुराण काल**  
पुराण काल 76.7 ⇌  
**पुराण कालीन**  
प्राचीन 63 6  
**पुराण फंथी**  
परंपरावादी 343 23  
सनातन धर्मी 737.35  
**पुराण पुरुष**  
विष्णु 768 1  
वृद्ध पुरुष 232.4  
**पुराण रथेता**  
वेद व्यास 789.21  
**पुराण सूची**  
पुराण सूची 740.17 ⇌  
**पुराणीय**  
पुराणीय 740 61 ⇌  
**पुरातत्त्व**  
पुरातत्त्व 77.1 ⇌  
**पुरातत्त्विकी (प्र)**  
पुरातत्त्व 77.1  
**पुरातन**  
आदिम 63.7  
पुराण 740 15  
प्राचीन 63 6  
सुदूर भूत कालीन 38.20

**पुरातन काल**  
पुरा काल 76.6  
**पुरातनता**  
आदिमता 63 2  
प्राचीनता 63 1  
**पुरातनता प्रेमी**  
अतीतवादी 343 19  
**पुरातन फंथ**  
प्रतिक्रियावाद 884.17  
**पुरातन फंथी**  
अतीतवादी 343.19  
परंपरावादी 343.23  
सनातन धर्मी 737 35  
**पुरातन पुरुष**  
विष्णु 768 1  
**पुरातनवादी**  
अतीतवादी 343 19  
**पुराधिप**  
नगर प्रशासक 891 7  
**पुराना**  
भडारण करना 670 24  
भरा जाना 1004 7  
**पुराना [पुरानी]**  
अति अनुभवी 303 18  
अतीत 63 8  
आनुवंशिक 727.39  
चिर परिचित 704 23  
चिर प्रचलित 514 17  
धिरवासी 618.32  
जर्जर 536 11  
पारंपरिक 795 13  
पूर्व कालीन 60 14  
प्रयीण 303 22  
प्राचीन 63 6  
फ्रेशनहीन 222 20  
भुक्त 363 13  
भूत कालीन 36.18  
यथापूर्व 533.13  
**पुराना क्रिस्ता**  
पुरा कथा 450 13  
**पुराना कुश्मन**  
धिरशत्रु 706 6  
**पुरानापन**  
जर्जरता 536.3  
प्राचीनता 63 1  
भुक्तता 363 2  
**पुराना पैसाः 3**  
अधेला 629.7  
**पुराना पैसाः 1/3**  
पाई 629.17  
**पुराना पैसाः 2**  
अधम्रा 629.6  
**पुराना पैसाः 4**  
आना 629.9  
**पुराना रुपयाः 1/64**  
पैसा 629.18  
**पुरानी जान पहचान**  
चिर परिचितता 704.9

पुरानी बुनिया  
पूर्वी भूगोलार्ध 10 8  
पुरानी पुष्पनी  
आनुवंशिक शत्रुता 706.4  
पुरानी यार्दे  
सस्मरण 356.7  
पुरानी रूई  
रुअड 568 6  
पुराने  
गुरुजन समष्टि 722 1  
पूर्वज समष्टि 727 21  
पुराने देवता  
असुर 783 6  
पुराने समय से  
पारपरिकल 795 17  
पुरा पाषाण मानव  
पुरावच मानव 128 9  
पुरामानव  
आदिम मानव 128 4  
पुरायुगीन न्याय परीक्षा  
प्राचीन न्याय प्रथा 876 2  
पुरालेख  
पुरालेख 77.7 ⇌  
पुरालेख पाल  
अभिलेख पाल 669 11  
पुरालेख भवन  
अभिलेखागार 669 10  
पुरावच मानव  
पुरावच मानव 128 9 ⇌  
पुरावच  
भीष्म 771 77  
पुरावासी  
पुरा आवासी 618 26  
पुरावृत्त  
इतिहास 76 1  
पुराशास्त्र  
पुरातत्त्व 77 1  
पुरिया  
ताना 576.8  
पुरी  
नगर 620 10  
महल्ला 619.6  
पुरीतत  
आंत्र 152.2  
पुरीच  
विष्ठा 216.2  
पुर  
दैत्य सूची 783.19  
पुरुष 236.12  
पुरुषि  
विष्णु 768.1  
पुरुष  
आत्मा 763.1  
ईश्वर 764.1  
कर्मचारी 652.27  
जीव 121.4  
नर 236.21  
पति 803.5

पुरुष 236 12 ⇌  
पुरुष 764.21 ⇌  
पुरुषीय 236 26  
विष्णु 768.1  
शिय 767.1  
पुरुष उपाधि सूची  
पुरुष उपाधि सूची 856 2 ⇌  
पुरुष और प्रकृति एक हैं.  
अद्वैतवाद 760.8  
पुरुष और प्रकृति भिन्न हैं  
विशिष्टाद्वैत वाद 760 9  
पुरुष और प्रकृति सत्य हैं  
विशिष्टाद्वैत वाद 760 9  
पुरुष का विवाह होना  
पुरुष का विवाह होना 799 43 ⇌  
पुरुष केसरी  
नृसिंह अवतार 769 20  
वीर पुरुष 396 2  
पुरुष ग्रह  
बृहस्पति ग्रह 7 6  
पुरुष जननेद्रिय  
पुरुष जननेद्रिय 152 10 ⇌  
पुरुष जातीय  
पुरुषीय 236.26  
पुरुष द्वेषी  
मानव द्वेषी 709 10  
पुरुष नृत्य  
तांडव 462.8  
पुरुष परिधान  
पुरुष परिधान 583 9 ⇌  
पुरुष पशु  
अघम पुरुष 840 3  
पुरुष पुंगव  
महापुरुष 839 3  
पुरुष भेद सूची  
पुरुष भेद सूची 236 16 ⇌  
पुरुष मित्र  
पुरुष मित्र 705.2 ⇌  
पुरुष मेध  
नर बलि 754 7  
पुरुष रत्न  
महापुरुष 839 3  
पुरुष रूपी स्त्री  
शिखडी 771 90  
पुरुषवर  
महापुरुष 839 3  
पुरुषः शिखा  
पुरुषः शिखा 137 11 ⇌  
पुरुष संख्यक  
विषम संख्यक 949.30  
पुरुष संख्या  
विषम संख्या 949.9  
पुरुष सूक्त  
सूक्त सूची 741 15  
पुरुषाख्या तनु  
ब्रह्मा सृष्टिकालीन तनु सूची 786.2  
पुरुषाणु  
वीर्य 130.10

पुरुषाव  
असुर दानव दैत्य राक्षस 783 2  
मनुष्य भक्षी 205.7  
पुरुषाघ  
असुर दानव दैत्य राक्षस 783.2  
पुरुषाधम  
अघम पुरुष 840 3  
पुरुषार्थ  
चतुर्वर्ग 761 22  
परिश्रम 493 1  
पुरुषार्थता  
परिश्रमशीलता 493 2  
पुरुषार्थहीन  
अपरिश्रमी 490 11  
पुरुषार्थहीनता  
अपरिश्रम 490.3  
पुरुषार्थी  
परिश्रमी 493 9  
पुरुषार्थी (विभाजन काल)  
विस्थापित जन 1036 5  
पुरुषार्थमाली  
शिय 767 1  
पुरुषीय  
पुरुषीय 236 26 ⇌  
पुरुषेन्द्र  
महापुरुष 839 3  
पुरुषेन्द्रिय  
पुरुष जननेद्रिय 152 10  
पुरुषोधित  
वीरोचित 395 7  
पुरुषोत्तम  
ईश्वर 764 1  
कृष्ण 771.1  
नारायण (नर) 764 19  
तहापुरुष 839 3  
विष्णु 768 1  
पुरुषोत्तम मास  
मल मास 43 19  
पुरुषवा  
विश्वेदेव सूची 777 10  
पुरोगता  
अग्रिम सदेश वाहक 443 5  
पुरोगामी 1096.9  
पुरोगत  
पुरोगत 1096 8 ⇌  
पुरोगम  
प्रधान 852 10  
पुरोगमन  
पुरोगमन 1096.1 ⇌  
पुरोगमन करना  
आगे चलना 1096.5  
पुरोगामी  
अगुआ 346 3  
नायक 467 5  
पुरोगामी 1096.9 ⇌  
शुगरी नायक 456.1  
पुरोगामी बल  
अग्रगामी सेना 933.2

पुरोगामी वृत्त  
अग्रिम सदेश वाहक 443.5  
पुरोगामी होना  
आगे चलना 1096.5  
पुरोडाश  
आहुति द्रव्य 753.27  
पुरोडाश 753.28 ⇌  
सोमरस 210 5  
पुरोध  
पुरोहित 744 11  
पुरोहित कर्म 744.10  
पुरोधिका  
प्रधान पत्नी 803 7  
पुरोभाग  
अग्रभाग 994.9  
पुरोभूमि  
फोरग्राउंड 404 20  
पुरोबचन  
भूमिका 447 8  
पुरोवाद  
पूर्व कथन 430 5  
पुरोहित  
पुरोहित 744 11 ⇌  
यज्ञ पुरोहित 753 10  
पुरोहित कर्म  
पुरोहित कर्म 744 10 ⇌  
पुरोहितः पत्नी  
पुरोहितः पत्नी 744.12 ⇌  
पुरोहितवाद  
पुरोहितवाद 760 19 ⇌  
पुरोहितानी  
पुरोहित पत्नी 744 12  
पुरोहिती  
पुरोहित कर्म 744 10  
पुरोती  
मौग पूर्ति 656.5  
पुरोनी  
कार्य समाप्ति 522 1  
मौग पूर्ति 656.5  
समाप्ति 942 6  
पुरजा  
परचा 938 28  
पुल  
पुल 1065.6 ⇌  
संयुति 1010 7  
पुल (अं)  
कर्षण 1051 7  
पुलक  
याकृत 96.24  
रोमांच 382.6  
हरताल 92.13  
पुलकना  
प्रसन्न होना 381.4  
रोमांचित होना 382.14  
पुलकांग  
दिव्य पाश 928 4  
पुलकांग पाश  
दिव्य पाश सूची 928.5

## पुलकालय

### पुलकालय

कामदेव 773.12  
कुबेर 779.4

### पुलकावली

रोमांच 382.6

### पुलकिस

अति आनंदित 382.20

आनंदित 382.17

प्रसन्न 381.7

रोमांचित 382.21

### पुलकित होना

रोमांचित होना 382.14

### पुलटिस

चेपय्य सूची 1012.4

पुलटिस 176.19 ⇌

### पुल निर्माण

पुल निर्माण 598.10 ⇌

### पुलः नीचे मार्ग

पुलः नीचे मार्ग 1065.14 ⇌

### पुल नौका

सेतुबंध नौका 1072.33

### पुलपिट (गिरजाघर)

उपदेश मंच 745.42

### पुल बंधाई

पुल निर्माण 598.10

### पुल बंधना

प्रशंसा गाना 841.25

### पुलस्वय

ऋषि मुनि सूची 789.17

ब्रह्मा. पुत्र सूची 786.10

शिव 767.1

सप्तर्षि मंडल ऋषि सूची 3.11

सप्तर्षि महाभारत 789.13

### पुलह

ऋषि मुनि सूची 789.17

ब्रह्मा. पुत्र सूची 786.10

शिव 767.1

सप्तर्षि मंडलः ऋषि सूची 3.11

सप्तर्षि महाभारत 789.13

### पुला

उपजिह्वा 143.8

### पुलाक

धोधा अनाज 187.5

मीक 208.17

### पुलाव

पुलाव 202.2 ⇌

बिरियानी 202.4

### पुलिदा

पुलिदा 674.8 ⇌

पैक 1014.2

### पुलिन

नदी तट 25.11

नदी परित्यक्त भूमि 25.5

पायर 1069.14

बालू तट 25.18

### पुलिनवती

नदी 20.1

### पुलिया

पुल 1065.6

पुलिया 1065.7 ⇌

### पुलिया धक्का

पायर 1069.14

### पुलिस

पुलिस 866.1 ⇌

### पुलिस कर्म

पुलिस कर्म 866.2 ⇌

### पुलिस कर्मी

पुलिस कर्मी 866.3 ⇌

### पुलिस गाड़ी

पुलिस गाड़ी 1070.14 ⇌

### पुलिस चौकी

पुलिस चौकी 866.4 ⇌

### पुलिस थाना

थाना 866.8

### पुलिस पोस्ट (अँ)

पुलिस चौकी 866.4

### पुलिसमेन (अँ)

पुलिस कर्मी 866.3

### पुलिस यंत्रणा

पुलिस यंत्रणा 391.15 ⇌

### पुलिस वैन (अँ)

पुलिस गाड़ी 1070.14

### पुलिस स्टेशन (अँ)

थाना 866.8

### पुली (अँ)

धिरनी 1077.39

### पुलोमजा

राधी 774.89

### पुलोमा

ऋषि स्त्री सूची 789.25

दानव सूची 783.13

पुलोमा 783.14 ⇌

### पुलोमारि

इंद्र 773.5

### पुलोवर

पुलोवर 585.61 ⇌

### पुलोवर (अँ)

पुलोवर 585.61

### पुलाकार्ट (अँ)

ठेला 1071.8

### पुरत

आधार 596.1

पीठ 147.8

पीढ़ी 595.20

पीढ़ी 727.27

पुरत 418.8 ⇌

### पुरत दर पुरत

अनुवंशतः 727.44

### पुरतनामा

वंशावली 727.13

### पुरत बपुरत

अनुवंशतः 727.44

### पुरता

आधार सूची 596.2

उच्च मार्ग 1065.3

टीला 16.1

डाइक 22.5

तट बंध 25.19

बौध पथ 1066.11

भूमिका बंध 22.4

### पुरतापुरत

अनुवंशतः 727.44

### पुरती

गाव तकिया 593.65

### पुरतैनी

आनुवंशिक 727.39

दायागत 623.27

पैतृक 727.43

### पुरतैनी दुरमन

आनुवंशिक शत्रु 706.5

### पुषित

संबंधित 979.25

### पुष्कर

कमल 14.4

जल 88.1

जलाशय 18.2

नील कमल 14.5

पोखरा 18.9

प्राकृतिक जलाशय 18.5

बाण 926.16

मधु 280.9

मिलन 389.1

म्यान 924.12

विष्णु 768.1

सारस 126.74

सूर्य 8.1

### पुष्कर जटा

कमल मूल 112.14

### पुष्कर द्वीप

पौराणिक महाद्वीप सूची 26.7

### पुष्कर मुख

गंगा सागर 679.25

### पुष्करिणी

कमल सरोवर 18.3

पोखरा 18.9

पौराणिक नदी सूची 20.23

मादा हाथी 127.39

### पुष्करीय

आकाशीय 2.7

### पुष्कल

अत्यधिक 944.7

असुर सूची 763.8

भरतः पुत्र सूची 770.42

### पुष्कलक

कील 1016.8

दीवारः खूँटी 1016.17

बौद्ध भिक्षु 790.27

### पुष्कलता

अत्यधिकता 944.2

### पुष्ट

पुष्ट 179.21 ⇌

बलिष्ठ 160.10

संपुष्ट 337.25

सुगठितकाय 160.13

स्वस्थ 161.5

### पुष्टई

पोषक आहार 179.18

### पुष्टता

बलिष्ठता 160.1

सुदृढ़ता 160.7

स्वस्थता 161.3

### पुष्ट न करना

संपुष्टि न करना 338.22

### पुष्ट भवन

शक्ति वर्धन 487.3

### पुष्ट होना

पुष्ट होना 179.20 ⇌

### पुष्टि

चंद्र कला सूची 8.4

पोषण 179.1

बलिष्ठता 160.1

मंडन 326.2

रसानुमृति 455.4

संपुष्टि 337.8

सुदृढ़ता 160.7

### पुष्टिकर

पौष्टिक 179.22

शक्ति वर्धक 487.23

### पुष्टि करना

संपुष्ट करना 337.13

### पुष्टिकर्ता

संपुष्ट कर्ता 337.26

### पुष्टिका

सीपी 124.19

### पुष्टिकारक

शक्ति वर्धक 487.23

### पुष्टिकृत

संपुष्ट 337.25

### पुष्टिद

पौष्टिक 179.22

शक्ति वर्धक 487.23

### पुष्टिदायकता

पोषकता 179.2

### पुष्टिप्रद

पौष्टिक 179.22

### पुष्टिमार्ग

वल्लभ संप्रदाय 737.43

### पुष्पंधय

भ्रमर 122.33

### पुष्प

पुष्प 115.8 ⇌

भस्मावरोध 254.2

रज 130.9

बौद्धोपचार सूची 750.4

### पुष्प [पुष्पा]

पुष्पदेही 159.11

### पुष्प (दं.)

उपवन पुष्प 14.1

### पुष्प उपवन

पुष्प उपवन 12.12 ⇌

**पुष्पक**  
कुबेर. विमान 779.13  
दंत मल 215.10  
पीतल कसीस 214.9  
पीमल 13 14  
पुष्प 115.6  
रावण. विमान 784 20

**पुष्प करंड**  
फूल डलिया 677.11

**पुष्प कलश**  
अस्थि कलश 263.5  
गुलदान 12.35

**पुष्प काल**  
वसंत काल 52 1

**पुष्प कीट**  
भ्रमर 122 33

**पुष्पकेतु**  
कामदेव 773.12  
गीतम बुद्ध 793 1

**पुष्प केसर**  
केसर 115.11

**पुष्प गुच्छ**  
पुष्प गुच्छ 12.34 ⇌

**पुष्प गुच्छ (दे. पुष्पोपहार गुच्छ)**  
शाखा: पुष्प समूह 115 8

**पुष्प ग्रंथि**  
सजावटी गोंठ 572 7

**पुष्प घयन**  
पुष्प घयन 12 31 ⇌

**पुष्प घयन कर्ता**  
पुष्प घयन कर्ता 12.32 ⇌

**पुष्पज**  
पुष्प रस 84 6

**पुष्पजीवी**  
पुष्प घयन कर्ता 12 32  
मालाकार 12 33

**पुष्पवंत**  
गंधर्व सूची 778.5  
चंद्रमा 8.2  
दिग्गज सूची 780.3

**पुष्पवंत नाथ**  
तीर्थंकर सूची 792 2

**पुष्पवंती**  
राक्षस स्त्री सूची 784.23

**पुष्पव**  
पुष्प वृक्ष 111.27

**पुष्पवल**  
पुष्प: पल्लव 115.7

**पुष्पवेह**  
पुष्पदेही 159 11

**पुष्पवेहता**  
पुष्पांगता 159.2

**पुष्पवेही**  
पुष्पदेही 159.11 ⇌

**पुष्प वृक्ष**  
पुष्प वृक्ष 111.27

**पुष्पधन्वा**  
कामदेव 773.12

**पुष्पध्वज**  
कामदेव 773.12

**पुष्पन**  
पुष्पन 118.1 ⇌

**पुष्पपर्वदी**  
मग 152.13

**पुष्प पराग**  
पराग 115 12

**पुष्प: पल्लव**  
पुष्प: पल्लव 115.7 ⇌

**पुष्प बलि**  
पुष्पार्पण 1059 19

**पुष्पबाण**  
कामदेव: पुष्प बाण 773 18

**पुष्पभव**  
पुष्प रस 84 6

**पुष्प भंड**  
गुलदान 12 35

**पुष्प मंजरी**  
मंजरी 115 10

**पुष्प मंडप**  
पुष्प मंडप 600.11 ⇌

**पुष्प माला**  
पुष्प माला 228 31 ⇌

**पुष्पमाला**  
पुस्तक माला 446.32

**पुष्प माला (दे.)**  
कठहार 228 26

**पुष्प माला चादर**  
मज़ार. चादर 255.9

**पुष्प मास**  
चैत्र 43 7

**पुष्पयुक्त**  
पुष्पयुक्त 115 17 ⇌

**पुष्परज**  
पराग 115 12

**पुष्प रथ**  
सैर यान 1071 18

**पुष्प रस**  
पुष्प रस 84.6 ⇌

**पुष्पराग**  
पुष्पराज 96 14

**पुष्प रेणु**  
पराग 115 12

**पुष्पलता**  
कफ़ाई बेल 578.14

**पुष्पवती**  
रजस्वला 130.13

**पुष्पवदन [पुष्पवदना]**  
सुमुख [सुमुखी] 158.12

**पुष्पवर्त्ता**  
दुपद 771 82

**पुष्प वर्त्ता**  
पुष्प वर्त्ता 1059.21 ⇌

**पुष्प वृक्ष**  
पुष्प वृक्ष 111.27 ⇌

**पुष्प वृष्टि**  
पुष्प वर्त्ता 1059.21

**पुष्प शकटिका निमित्त ज्ञान**  
बौंसठ कला सूची 397.4

**पुष्प शय्या**  
पुष्प शय्या 594.3 ⇌

**पुष्पशर**  
कामदेव 773 12

**पुष्पशाक**  
फूल गोभी 189 17

**पुष्प समूह**  
शाखा पुष्प समूह 115 8

**पुष्पसार**  
इत्र 274 8  
पुष्प रस 84 6

**पुष्पसारा**  
तुलसी 13.9

**पुष्पहार**  
पुष्प माला 228 31

**पुष्पहार धारण**  
सोलह सिगार सूची 222 3

**पुष्पहास**  
विष्णु 768 1

**पुष्पहीन**  
अपुष्पित 118 15  
पुष्पहीन 115 18 ⇌

**पुष्पहीना**  
रज निवृत्ता 130 14

**पुष्पांकुर**  
कली 115 5

**पुष्पांगता**  
पुष्पांगता 159.2 ⇌

**पुष्पांजलि**  
सुविध सग्रह 669 6

**पुष्पांबुज**  
पुष्प रस 84.6

**पुष्पा:न**  
पुष्पन 118 1  
वसंत काल 52 1

**पुष्पाभिषेक**  
पुष्पार्पण 1059 19

**पुष्पायुध**  
कामदेव 773 12

**पुष्पार्पण:**  
पुष्पार्पण 1059.19 ⇌

**पुष्पावली**  
शाखा पुष्प समूह 115 8  
सेहरा 802 26

**पुष्पासव**  
कदंब पुष्प मद्य 209 5  
मद्य 280.9

**पुष्पासार**  
पुष्प वर्त्ता 1059.21

**पुष्पास्तरण**  
बौंसठ कला सूची 397 4  
पुष्प वर्त्ता 1059.21

**पुष्पिका**  
अध्याय: समापक वाक्य 447.6  
दंत मल 215.11

**पुष्पित**  
चितकबरा [चितकबरी] 269.75  
पुष्पयुक्त 115 17  
पुष्पित 118.14 ⇌

**पुष्पित भाषा**  
अलंकृत भाषा 421.21

**पुष्पित होना**  
पुष्पित होना 118 8 ⇌

**पुष्पिता**  
रजस्वला 130.13

**पुष्पी [पुष्पा]**  
पुष्पित 118.14

**पुष्पी [पुष्पिणी]**  
पुष्पित 118 14

**पुष्पेपु**  
कामदेव 773 12

**पुष्पोक्तटा**  
राक्षस स्त्री सूची 784 23

**पुष्पोद्गम**  
पुष्पन 118 1

**पुष्पोद्यान**  
पुष्प उपवन 12 12

**पुष्पोपवन**  
पुष्प उपवन 12 12

**पुष्पोपहार**  
पुष्पार्पण 1059.19

**पुष्प**  
नक्षत्र सूची 4 6  
पीष 43 16

**पुष्प रथ**  
सैर यान 1071 18

**पुस्त**  
पुस्तक 446.1  
हस्तलिखित पुस्तक 448.2

**पुस्तक**  
पुस्तक 446.1 ⇌  
हस्तलिखित पुस्तक 446 2

**पुस्तक: अंत**  
पुस्तक अंत 447 13 ⇌

**पुस्तक अलमारी**  
पुस्तक अलमारी 671.7 ⇌

**पुस्तक आधान**  
पुस्तक आधान 596.9 ⇌

**पुस्तक आधार**  
पुस्तक आधार 596 10 ⇌

**पुस्तक आवरण**  
पुस्तक आवरण 418.6 ⇌

**पुस्तक कवर**  
पुस्तक आवरण 418 6

**पुस्तक कीट**  
पठनशील 321.54

**पुस्तक कृमि**  
किताबी कीड़ा 122.15

**पुस्तक खंड**  
पुस्तक खंड 447.1 ⇌

**पुस्तक पठन आधार**  
पुस्तक आधार 596.10

## पुस्तक पाठ

पुस्तक पाठ  
पाठ 412'31  
पुस्तक पाठक  
पाठक 399 5  
पुस्तक: प्रति  
पुस्तक. प्रति 446 8 ⇌  
पुस्तक: भूमिका  
भूमिका 447 8  
पुस्तक माला  
पुस्तक माला 446 32 ⇌  
पुस्तक कर्म  
जित्दसाजी 418 10  
पुस्तक लेखक  
पुस्तक लेखक 448 4 ⇌  
पुस्तक वाचन  
बौंसठ कला सूची 397 4  
पुस्तक विक्रेता  
पुस्तक विक्रेता 420.6 ⇌  
पुस्तक विमोचन  
पुस्तक विमोचन 420 5 ⇌  
पुस्तक सीरीज़  
पुस्तक माला 446 32  
पुस्तकालय  
पुस्तकालय 669 13  
पुस्तकालय  
पुस्तकालय 669.13 ⇌  
पुस्तकालय अध्यक्ष  
पुस्तकालय अध्यक्ष 669 14 ⇌  
पुस्तकावली  
पुस्तक माला 446 32  
पुस्तकास्तरण  
पुस्तक आवरण 418 6  
पुस्तिका  
डायरी 41 5  
पुस्तिका 446.4 ⇌  
पुस्तक  
कमल 14 4  
जलाशय 18 2  
पुस्तक  
पुष्प 115 6  
पुस्तकी  
पृथ्वी 9 1  
पुस्तिका  
पुस्तिका 461 57  
पुस्तक  
अनुचर 696 16  
पुस्तक पुस्तक 151 10  
पुस्तकभाग 995 6  
पुस्तकालय 1096.13  
पुस्तक पुस्तक 1074 24  
पुस्तकालय  
तथ्यान्वेषण 336 1  
पुस्तक 333.2  
पुस्तक  
पुस्तक 333.19  
पुस्तक 218.30  
पुस्तक  
पुस्तक 151.12

पुस्तक: पंख  
पुस्तक पंख 151 12 ⇌  
पुस्तकयुक्त  
पुस्तक 151 20  
पुस्तक  
पुस्तक 151 20  
पुस्तक विषयक  
पुस्तक 151 19  
पुस्तक  
पुस्तक 686 6  
पुस्तक  
जमा पुस्तक 628 8  
पुस्तक संपत्ति 624 10  
पुस्तक 628 9 ⇌  
पुस्तक 628 28  
पुस्तक 633 9  
पुस्तकालय  
पुस्तक 628 28  
पुस्तकालय उपस्कर  
पुस्तकालय उपस्कर 557 8 ⇌  
पुस्तकालय माल  
पुस्तकालय उपस्कर 557 8  
पुस्तक निवेश  
पुस्तक निवेश 628.11 ⇌  
पुस्तक निवेशक  
पुस्तक निवेशक 628.30 ⇌  
पुस्तक निवेश करना  
पुस्तक निवेश करना 628 22 ⇌  
पुस्तकालय  
पुस्तकालय 557 5  
पुस्तक निवेशक 628 30  
पुस्तकालय 628 10 ⇌  
पुस्तक  
पुस्तक 628 28 ⇌  
पुस्तक लगाना  
पुस्तक निवेश करना 628 22  
पुस्तकालय  
पुस्तकालय 884.18 ⇌  
पुस्तकालय  
पुस्तकालय वर्ग 688 9  
पुस्तकालय वर्ग  
पुस्तकालय वर्ग 688 9 ⇌  
पुस्तक  
समूह 690.1  
पुस्तकालय  
पुस्तकालय 213.28  
पुस्तक कला  
सुपारी 213 22  
पुस्तक  
सुपारी 213 22  
पुस्तक  
खोज 336 4  
पुस्तक 333.2  
पुस्तक 849.2  
पुस्तक  
अनुपेक्षा 184.2  
आदर 854 1  
कुशल प्रश्न 710.7

तथ्यान्वेषण 336 1  
पुस्तक 333.2  
सत्कार 184.1  
पुस्तकालय  
कुशल प्रश्न 710 7  
तथ्यान्वेषण 336 1  
पुस्तक 333 2  
स्पष्टीकरण मॉड 875 19  
पुस्तकालय करना  
पुस्तक 333 19  
पुस्तकालय कर्ता  
प्रश्न कर्ता 333.24  
पुस्तकालय  
जिज्ञासा करना 305 27  
पुस्तक 333.19 ⇌  
पुस्तकालय गणना  
पुस्तक 333 19  
पुस्तकालय बाला  
प्रश्न कर्ता 333 24  
पुस्तक [पुस्तक]  
प्रश्नित 333 23  
पुस्तकालय  
तथ्यान्वेषण 336 1  
स्पष्टीकरण मॉड 875 19  
पुस्तकालय  
तथ्यान्वेषण 336 1  
हस्तक्षेप 1047 13  
पुस्तक  
ईश्वर पुस्तक 751 5  
पुस्तक 751.3 ⇌  
पुस्तक  
अभिनदन 854 8  
पुस्तक 751.2 ⇌  
पुस्तक 751 1  
पुस्तकालय  
पुस्तक करना 751 22  
बलि करना 754 18  
भुगतान करना 634 19  
रिश्त देना 865 19  
पुस्तकालय  
गोरेया 126 30  
पुस्तकालय  
आदरणीय 854.18  
पुस्तकालय 751.24 ⇌  
पुस्तकालय  
पुस्तक 751 3  
पुस्तकालय  
ग्रहशांति 261 27  
दशहरा 57.9  
दुर्गा पुस्तक 57.14  
पुस्तकालय 918 9  
पुस्तक 751 1 ⇌  
पुस्तक गीत सूची 749.26  
बलि कर्म 754.1  
पुस्तक अर्वा  
पुस्तक 751 1  
पुस्तक उपहार  
घड़ाया 750.12

पुस्तक उपपत्तना  
पुस्तक 751 1  
पुस्तकालय  
उपासना कक्ष 745 14  
पुस्तकालय  
पुस्तक करना 751.22 ⇌  
प्रेम करना 368 13  
पुस्तक कर्ता  
पुस्तक 751 3  
पुस्तक कर्म  
पुस्तक 751 2  
पुस्तक गीत  
पुस्तक गीत 749 25 ⇌  
पुस्तक गीत सूची  
पुस्तक गीत सूची 749.26 ⇌  
पुस्तकालय  
उपासना कक्ष 745 14  
उपासनालय 745 13  
देव मंदिर 745 30  
पुस्तक धर्म  
आसन धर्म 582.12  
पुस्तक जल  
अर्घ्य 750 5  
पुस्तक: थाल  
पुस्तक सामग्री पात्र 750 2  
पुस्तक पाठ  
धर्म कर्म 747 1  
धर्म पाठ 749 10  
पुस्तकालय  
धर्म कर्मी 747 6  
पुस्तक भक्ति  
धर्म कर्म 747 1  
पुस्तक 751 1  
पुस्तक भाव पूर्ण  
भक्तिपूर्ण 752 20  
पुस्तक भिन्नता  
घड़ाया 750 12  
पुस्तकालय  
घड़ाया 750 12  
पुस्तकालय  
वेदी 745.45  
पुस्तक संभार  
पुस्तक सामग्री 750.1  
पुस्तक समारोह  
मास 751 21  
सत्संग 749 21  
पुस्तक सामग्री  
पुस्तक सामग्री 750.1 ⇌  
पुस्तक सामग्री पात्र  
पुस्तक सामग्री पात्र 750.2 ⇌  
पुस्तक स्थल  
उपासना स्थल 745.15  
तीर्थ स्थान 1089 10  
पुस्तक स्थान  
उपासना स्थल 745 15  
पुस्तक  
पुस्तक 751.23 ⇌  
सत्कृत 184.6



सम्मानित 854 19  
सिफारिशी 841 37  
पूजोपकरण  
पूजा सामग्री 750 1  
पूज्य  
आदरणीय 854.18  
पूजनीय 751 24  
पूजनीय 751.24  
सम्मान्य 854 20  
ससुर 724 6  
पूज्य [पूज्या]  
पत्रासन्न स्तंभन आदि सूची 444 41  
पूजा  
पकौड़ा 200 19  
पुआ 203 20  
पूजा 200 20 ⇌  
पूरी  
पूरी 202 26  
पूत  
पापहीन 813 9  
पुत्र 718 3  
विशुद्ध 219 7  
पूतन  
येताल 786 11  
पूतना  
डाकिनी 786 7  
दैन्य स्त्री सूची 783 21  
पूतना 784 25 ⇌  
राक्षस स्त्री 784.2  
राक्षस स्त्री सूची 784.23  
पूतनारि  
कृष्ण 771 1  
पूतनिका  
पूतना 784 25  
पूतपाप  
पापनष्ट 813.10  
पूतात्मा  
धर्मशील 735 13  
पापनष्ट 813.10  
पुण्य कर्ता 814.5  
सदाशय 817.10  
पूति  
दुर्गध 273.5  
पूय 167 16  
पूतिक  
दुर्गधपूर्ण 273 16  
पूयित 169.15  
पूतिनी  
पुत्रवती स्त्री 236.10  
पूति रोधी  
पूय रोधी 170.10  
पूती  
गौठदार मूल 112.11  
पूती वाली  
पुत्र: माता 717.8  
पूत्कारि  
नाम: राजधानी 778.16

पूनुम  
पूणिमा 44.24  
पूणिमा रात 48 6  
पूनी  
पूनी 568 7 ⇌  
फाहा 174 19  
पूनों  
पूणिमा रात 48 6  
पूनी  
पूणिमा 44 24  
पूनी  
पूणिमा 44.24  
पूनी  
पूणिमा 44 24  
पूय  
नीका पृष्ठ 1073 31  
पकौड़ा 200 19  
पुआ 203 20  
पूपा  
पकौड़ा 200 19  
पूय  
पूय 167.16 ⇌  
पूयन  
पूयन 169.9 ⇌  
पूय रोधी  
पूय रोधी 170.10 ⇌  
पूयारि  
नीम 13 12  
पूय रोधी 170.10  
पूयिक  
पूयित 169.15  
पूयित  
पूयित 169.15 ⇌  
पूयित होना  
पूयित होना 169 12 ⇌  
पूरंपट  
पूर्णाशिक 940 13  
शेष फलहीन 954 16  
पूरक  
जलराशि 18 1  
जलाशय 18.2  
पूर्णाशिक 940.13  
प्रवाह 1041.1  
भरा [भरी] 1004 12  
पूरक  
आपूर्ति कर्ता 634 34  
क्षतिपूरक 634.36  
गुणनांक 955.3  
पूरक अंश 939.8  
भरने वाला 1004.11  
पूरक अंश  
परिशिष्ट 447.10  
पूरक अंश 939.8 ⇌  
पूरकता  
परस्परता 703.1  
पूरक भाग  
परिशिष्ट 447.10

पूरण  
आपूर्ति 634.14  
कार्य समापन 522.2  
गुणन कर्म 955.1  
पूरण संख्या 949 10  
भराई 1004 1  
पूरण कर्ता  
आपूर्ति कर्ता 634.34  
पूरण संख्या  
पूरण संख्या 949 10 ⇌  
पूरण संख्या (पहला, दूसरा)  
पूरण संख्या 949 10  
पूरना  
आपूर्ति करना 634 21  
इच्छा पूरी करना 361 8  
कार्य समापन करना 522.3  
बजाना 461 103  
बटना 567 15  
भराई करना 1004.8  
व्याप्त होना 981 8  
पूरब  
एशिया 27 1  
पूर्व 29 11  
पूर्व भारत 28.6  
पूरब पच्छिम  
विपरीतता उपमान सूची 310 13  
पूरबी  
पूर्वी 29 32  
राग रागिनी सूची 457.24  
पूरमपूर  
भरपेट 182 17  
पूरयिता  
आपूर्ति कर्ता 634.34  
कार्य समापक 522.5  
क्षतिपूरक 634 36  
मौ, पूर्ति कर्ता 656 6  
पूरा [पूरी]  
अभजित 539 13  
अविघ्न 500 15  
अविभक्त 698 11  
असंक्षिप्त 978 7  
आन्वित्वासी 487 26  
आद्योपात 940 14  
आपूर्त 634 33  
एकीकृत 698.10  
परिपूर्ण 313.14  
पर्याप्त 941 6  
पूर्ण मात्रिक 946.15  
पूर्ण रचित 527.16  
पूर्ण विकसित 534 15  
पूर्णाशिक 940 13  
ब्रबल 487.24  
भरा [भरी] 1004.12  
युतिहीन 1010.26  
शेष फलहीन 954.16  
संगत 436.6  
समाप्त 942.20  
समाप्त (कार्य) 522.4

सर्वांग 153 14  
पूरा करना  
आपूर्ति करना 634.21  
पूरा छा जाना  
पूरा छा जाना 181.34 ⇌  
पूरा चौध: रात  
पूणिमा रात 48.6  
पूरा जलना  
पूरा जलना 108 10 ⇌  
पूरा जीवन  
दीर्घ काल 37.5  
पूरा दिन  
अहोरात्र 46 10  
पूरा दिन: छुट्टी  
पूर्ण अवकाश 494.15  
पूरा न होना  
समाप्त न होना 523 4  
पूरा पकना  
पर्याप्त होना 941 5  
पूरापन  
पूर्णाशता 940 5  
पूरा पैर  
पैर 149 12  
पूरा बना [पूरा बनी]  
पूर्ण रचित 527 16  
पूरा ब्योरा  
सविस्तार विवरण 449 11  
पूरा भरा [पूरी भरी]  
हुँसा [हुँसी] 1004 14  
पूरा विश्वास  
पूर्ण आशा 375.3  
पूरा साइज़  
पूरा साइज़ 961.3 ⇌  
पूरा हथ  
हस्त 149.2  
पूरा हिस्सा  
पूर्ण अंश 940.6  
पूरा होना  
मरना 249 18  
पूरिक  
पूरी 202.26  
पूरित  
गुणित 949 42  
भरा [भरी] 1004 12  
समाप्त 942 20  
पूरिया  
राग रागिनी सूची 457.24  
पूरी  
गोलगम्पा 200.12  
तबला चमड़ा 461.101  
पूरी 202.26 ⇌  
साड़ी 586.16  
पूरी उन्न  
दीर्घ काल 37.5  
पूरी क्षमता से  
क्षमतापूर्वक 487.33  
पूरी छुट्टी  
कार्य दिवसांत 494.3

## पूरी तरह

**पूरी तरह**  
असंक्षिप्ततः 978.8  
ऊपर तक 1004 17  
एकबारगी 634 38  
क्षमतापूर्वक 487.33  
पूर्णाशतः 940 15  
बलिष्ठत 180 16  
विवरणपूर्वक 449 32  
शत प्रति शत 947 32  
सफलतापूर्वक 512 8

**पूरी तरह मिलना**  
सम्मिश्रित होना 1008 19

**पूरी तरह बैसा**  
समान 309 22

**पूरी धाली**  
पूरी धाली 199.9 ⇌

**पूरी मात्रा**  
दीर्घ मात्रा 410 15

**पूरी सदी**  
दीर्घ काल तक 37.11

**पूरे**  
सर्व 940.8

**पूरे दिन**  
दीर्घ काल तक 37 11  
पूरे दिन 1049.21 ⇌

**पूरे महीने**  
दीर्घ काल तक 37 11

**पूरे में**  
घटुदिशतः 29.36

**पूरे युग**  
दीर्घ काल तक 37.11

**पूरे साल**  
दीर्घ काल तक 37 11

**पूर्ण**  
अद्वैत ईश्वर 764 6  
अभंजित 539 13  
अविभक्त 698 11  
असंक्षिप्त 978 7  
एकीकृत 698.10  
निर्नात अंतिम 995 15  
परिपूर्ण 313 14  
पर्याप्त 941 6  
पूर्ण रचित 527 16  
पूर्ण विकसित 534.15  
पूर्णांशिक 940.13  
भरा [भरी] 1004 12  
व्यतीत 74 3  
समाप्त (कार्य) 522 4  
सर्व 940.8  
सर्वांग 153 14

**-पूर्ण**  
सहित प्रत्यय सूची 1006.5

**पूर्ण अंश**  
पूर्ण अंश 940.6 ⇌

**पूर्ण अवकाश**  
पूर्ण अवकाश 494 15 ⇌

**पूर्ण अवतार**  
पूर्णावतार 769 4

1242

**पूर्ण असादृश्य**  
विपरीतता 310.2

**पूर्ण आत्मा**  
पूर्ण आत्मा 763.2 ⇌

**पूर्ण आशा**  
पूर्ण आशा 375.3 ⇌

**पूर्ण कर्ता**  
कार्य समापक 522 5  
क्षतिपूरक 634 36

**पूर्णकाम**  
पूर्णच्छ 361 13  
सफल 512 6

**पूर्णकाय**  
विकसित 534 14  
सर्वांग 153 14

**पूर्णकालिक**  
पूर्णकालिक 650.20 ⇌

**पूर्ण कालीन**  
पूर्णकालिक 650 20

**पूर्ण कुंभ**  
कुंभ उत्सव 57 3

**पूर्णकृत**  
समाप्त (कार्य) 522.4

**पूर्ण कृष्ण (द्वारिकावासी कृष्ण)**  
तीन कृष्ण सूची 771 2

**पूर्ण खंडन करना**  
पूर्ण खंडन करना 326.10 ⇌

**पूर्णगर्भा**  
आसन्न प्रसवा 244.14

**पूर्ण चंद्रमा**  
पूर्ण चंद्रमा 8.5 ⇌

**पूर्ण चंद्रमा: तिथि**  
पूर्णिमा 44.24

**पूर्ण चक्र**  
वृत्त (चक्र) 972 1

**पूर्ण जीवन**  
आयु 229 1

**पूर्णज्ञ**  
महाज्ञाना 305 31

**पूर्णतः**  
असंक्षिप्ततः 978 8  
आद्योपाततः 940.16  
एकबारगी 634.38  
पूर्णाशत 940.15  
प्रतिरूपतः 967.23  
शत प्रति शत 947.32

**पूर्णतः गोल**  
समवर्तुलाकार 978.17

**पूर्णतः नवीन**  
नवीनतम 64 11

**पूर्णतः नवीनता**  
नवीनतमता 64.4

**पूर्णतः शिक्षित**  
सुरक्षित 908.27

**पूर्णतः समरूप**  
पूर्णतः समरूप 967.21 ⇌

**पूर्णतः सृष्ट**  
पूर्णतः समरूप 967.21

**पूर्णतम कृष्ण (ब्रजवासी कृष्ण)**  
तीन कृष्ण सूची 771.2

**पूर्णतया**  
असंक्षिप्ततः 978.8  
आद्योपाततः 940.16  
पूर्णाशत 940 15  
प्रतिरूपतः 967.23  
शत प्रति शत 947 32

**पूर्णतर कृष्ण (मथुरावासी कृष्ण)**  
तीन कृष्ण सूची 771 2

**पूर्णता**  
आद्योपातता 940 7  
कार्य समाप्ति 522.1  
पराकाष्ठा 534 3  
परिपूर्णता 313 5  
पूर्णाशता 940 5  
सहितता 1006 1  
सामूहिकता 690 2

**पूर्ण दग्ध**  
पूर्ण दग्ध 108 16 ⇌

**पूर्ण दग्ध होना**  
पूरा जलना 108 10

**पूर्ण दहन**  
पूर्ण दहन 108.2 ⇌

**पूर्ण पठन**  
पूर्ण पठन 321.29 ⇌

**पूर्ण परिज्ञान**  
सुविज्ञता 305 19

**पूर्ण परिवर्तनः**  
क्रांति 903 5  
पूर्ण परिवर्तन 532.8 ⇌

**पूर्ण परिवर्तनकारी**  
पूर्ण परिवर्तनकारी 532.20 ⇌

**पूर्ण परिवर्तित**  
पूर्ण परिवर्तित 532.19 ⇌

**पूर्ण पृथ्वीय**  
विश्व स्तरीय 35 9

**पूर्णप्रतिज्ञा**  
पूर्णप्रतिज्ञा 339.46 ⇌

**पूर्ण बिंदु (.)**  
पूर्ण विराम 425.32

**पूर्ण भक्ति**  
अंध भक्ति 752.3

**पूर्ण भक्षक**  
पूर्ण भक्षक 181.54 ⇌

**पूर्ण भक्षण**  
पूर्ण भक्षण 181.11 ⇌

**पूर्ण भक्षित**  
पूर्ण भक्षित 181.63 ⇌

**पूर्ण मनोयोग**  
समाधिस्थता 755 4

**पूर्णमनोरथ**  
सफल 512.6

**पूर्ण मात्रिक**  
पूर्ण मात्रिक 946.15 ⇌

**पूर्ण मात्र**  
पूर्णिमा 44.24

**पूर्णमासी**  
पूर्णिमा 44.24

**पूर्णमिदं**  
समापनः उक्ति सूची 522.7

**पूर्ण मिश्रण**  
सम्मिश्रण 1008.12

**पूर्ण मिश्रितता**  
सम्मिश्रितता 1008.13

**पूर्ण मृत्यु**  
पूर्ण मृत्यु 249.4 ⇌

**पूर्ण युवा**  
युवा 231.12

**पूर्ण योगी**  
योगेश्वर 758 5

**पूर्ण जीवन**  
जीवन 231 6

**पूर्ण रचित**  
पूर्ण रचित 527.16 ⇌

**पूर्ण विकसित**  
पूर्ण विकसित 534.15 ⇌

**पूर्ण विकासः अवस्था**  
वयस्कता 229 13

**पूर्ण विकास काल**  
जीवन 231.6

**पूर्णविद्य**  
पूर्णविद्य 318.5 ⇌

**पूर्ण विराम**  
कार्य समाप्ति 522.1  
पूर्ण विराम 425.32 ⇌  
समाप्ति 942 6

**पूर्ण विश्वास**  
संदेहहीनता 340.6

**पूर्ण बुद्धि**  
वयस्कता 229.13

**पूर्ण श्रद्धा**  
अंध भक्ति 752.3

**पूर्णश्री**  
धन वैभवशाली 226.16  
समुद्र 626.11

**पूर्ण संख्या**  
पूर्ण संख्या 949.11 ⇌

**पूर्ण संभावना**  
अवश्यभावना 68.7

**पूर्ण संभावित**  
अवश्यभावी 68.15

**पूर्ण सज्जा**  
औपचारिक वेश 589.12  
वेश 589.1

**पूर्ण सत्य**  
परम सत्य 820.3

**पूर्ण सद्वा**  
समान 309.22

**पूर्ण साक्षर्य**  
समानता 309.5

**पूर्ण स्वामी**  
पूर्ण स्वामी 621.5 ⇌

**पूर्णांक**  
पूर्ण संख्या 949.11

पूर्णांक 322.20 ⇨  
संख्या अंक 948.3  
पूर्णांगता  
सर्वांगता 153 1  
पूर्णांश  
पूर्ण अंश 940.8  
पूर्णांशिक 940.13  
पूर्णांशतः  
पूर्णांशतः 940.15 ⇨  
पूर्णांशता  
पूर्णांशता 940.5 ⇨  
पूर्णांशिक  
पूर्णांशिक 940 13 ⇨  
पूर्णांशिकता  
पूर्णांशता 940 5  
पूर्णा  
घट्ट कला सूची 8.4  
दशमी 44.16  
पंचमी 44.11  
पौंच 948 25  
पूर्णाभूता  
चंद्र कला सूची 8 4  
पूर्णाभू  
दीर्घायु 229.19  
पूर्णाभूषण  
दीर्घ कालीनता 37 4  
पूर्णावकाश  
कार्य दिवसांत 494 3  
पूर्ण अवकाश 494 15  
पूर्णावतार  
पूर्णावतार 769 4 ⇨  
पूर्णावधि  
पूर्णावधि चतुर्नाब  
पूर्णावधि निर्वाचन 888 3  
पूर्णावधि निर्वाचन  
पूर्णावधि निर्वाचन 888 3 ⇨  
पूर्णावयव  
सर्वांग 153 14  
पूर्णिमा  
पूर्णिमा 44.24 ⇨  
पूर्णिमा (दे.)  
पूर्णिमा. रात 48.6  
पूर्णिमा: चंद्रमा  
पूर्ण चंद्रमा 8.5  
पूर्णिमा: रात  
पूर्णिमा. रात 48.6 ⇨  
पूर्णाहु  
पूर्ण चंद्रमा 8.5  
पूर्णाच्छ  
पूर्णाच्छ 361.13 ⇨  
पूर्त  
आपूर्त 634.33  
पालित (आज्ञा) 347.20  
प्रविष्टिकृत 412.50  
फूला [फूली] 988.13  
मरा [मरी] 1004.12  
व्यापक 981.12  
समाप्त (कार्य) 522.4

पूर्वव्रत  
पूर्वसंकल्प 500.12  
पूर्वसंकल्प  
पूर्वसंकल्प 500 12 ⇨  
पूर्ति  
आपूर्ति 634 14  
कार्य समाप्ति 522.1  
क्षति पूर्ति 634 16  
गुणन कर्म 955 1  
तृप्ति 361.5  
प्रविष्टि 412.27  
भराई 1004 1  
मौग पूर्ति 656 5  
रसद 656 10  
पूर्ति करना  
आपूर्ति करना 634 21  
मौग पूर्ति करना 656.14  
पूर्ति कर्ता  
आपूर्ति कर्ता 634 34  
मौग पूर्ति कर्ता 656 6  
पूर्ति विभाग  
रसद विभाग 656 11  
पूर्ति साधन  
कर्म 504 1  
पूर्ती  
आपूर्ति कर्ता 634 34  
पूर्व  
अगेती 62 21  
अग्र 994 18  
आगे आगे 1096 14  
आठ दिशा सूची 29.6  
आदिम 63 7  
आरंभिक 994 16  
एशिया 27.1  
चार दिशा सूची 29.5  
पारपरिक 795.13  
पूर्व 29.11 ⇨  
पूर्व कालीन 60 14  
पूर्वतः 60 19  
पूर्व भारत 28.6  
भूत कालीन 36 18  
भूतपूर्व 65 3  
पूर्व अभ्यास  
रिहर्सल 468.16  
पूर्व आक्रयण  
क्रय आरक्षण 660 11  
पूर्व आक्रमित  
आरक्षित 660.20  
पूर्व आग्रह  
पूर्व धारणा 343.8  
पूर्व आशा  
प्रत्याशा 375.5  
पूर्व आवाह  
नक्षत्र सूची 4.6  
पूर्वक  
सहिततः 1006.3  
पूर्व कथन  
पूर्व कथन 430.5 ⇨

भूमिका 447.8  
पूर्व कथा  
पूर्व पीठिका 466.17  
पूर्व कथित  
उपरिलिखित 430 21  
पूर्व कथित 430.20 ⇨  
पूर्वकथित को असत्य कथन  
अपलाप 435 10  
पूर्व कर्म  
उपक्रम 521.4  
पूर्व कर्म 260.8 ⇨  
पूर्व कर्मफल  
पूर्व कर्मफल 260 9 ⇨  
पूर्वकल्प  
परिकल्पना 520 5  
पूर्व कल्प  
प्राचीन काल 76 5  
सृष्टि काल 529 2  
पूर्व कल्पना  
परिकल्पना 520 5  
पूर्व कल्पित  
पूर्व निर्धारित 328 16  
प्रत्याशित 375.9  
पूर्व का जादू  
पूर्व का जादू 474.5 ⇨  
पूर्व काल  
पुरा काल 76.6  
पूर्व काल 60 7 ⇨  
पूर्व काल में  
पूर्व काल में 60 18 ⇨  
पूर्व कालीन  
पूर्व कालीन 60.14 ⇨  
पूर्वकालीन  
प्राचीन 63 6  
पूर्व कालीनता  
पूर्व कालीनता 60 8 ⇨  
पूर्व गंगा  
नर्मदा 20 16  
पूर्वगत  
पुरोगत 1096 8  
पूर्व कालीन 60.14  
पूर्व गमन  
पुरागमन 1096 1  
पूर्वगामी  
पुरोगामी 1096 9  
पूर्वगामी [पूर्वगामिनी]  
पूर्व कालीन 60.14  
पूर्वग्रह  
पूर्व धारणा 343.8  
पूर्वज  
पितृ 253.26  
पूर्व कालीन 60.14  
पूर्वज 727.20 ⇨  
वंश प्रवर्तक 727.7  
पूर्वज [पूर्वजा]  
अग्रज [अग्रजा] 723.8  
पूर्वज 727.20

पूर्वज आवास स्थान  
मूल निवास 618.3  
पूर्वजता  
अग्रजता 723.7  
पूर्व कालीनता 60.8  
पूर्वजता 727.19 ⇨  
पूर्व जन्म  
पूर्व जन्म 248.5 ⇨  
पूर्व जन्म कर्मफल  
पूर्व कर्मफल 260.9  
पूर्वज समष्टि  
पूर्वज समष्टि 727.21 ⇨  
पूर्वजा  
बड़ी बहन 723.10  
पूर्वजात  
पूर्वजात 62.19 ⇨  
पूर्वजातक  
पूर्वजात 62 19  
पूर्वजातता  
पूर्वजातता 62 7 ⇨  
पूर्व झलक  
पूर्व झलक 520.12 ⇨  
पूर्व झलक (दे.)  
प्रथम प्रयोग 994 6  
पूर्वतः  
आरमतः 994.21  
पारंपरिकतः 795 17  
पूर्वतः 60.19 ⇨  
प्रथमतः 505.38  
पूर्वतन  
प्राचीन 63.6  
पूर्वतर  
पूर्वत 60 19  
पूर्वता  
अगेतीपन 62 9  
पूर्व कालीनता 60 8  
पूर्वता 60 10 ⇨  
प्रथम स्थान 707.4  
समय पूर्वता 62.3  
पूर्वत्र  
पूर्वतः 60 19  
पूर्व दक्षिण  
दक्षिण पूर्व 28.17  
पूर्व दिगीश  
इंद्र 773 5  
पूर्व दिग्ब  
पूर्वी 29.32  
पूर्व दिष्ट  
पूर्व निर्धारित 328.16  
प्रारब्धाधीन 260.27  
पूर्व देव  
कृष्ण अर्जुन 771.52  
नर नारायण 764.17  
पूर्व देवता  
असुर 783.6  
पितृ 253.26  
पूर्व दैहिक  
पूर्व कर्म 260.8

## पूर्व धारणा

### पूर्व धारणा

पूर्व धारणा 343.8 ⇨

### पूर्व धारणाग्रस्त

पूर्व धारणाग्रस्त 343.15 ⇨

### पूर्व धारणाहीन

पूर्व धारणाहीन 344.13 ⇨

### पूर्व नियत

पूर्व निर्धारित 328.16

### पूर्व निर्धारित

पूर्व निर्धारित 328.16 ⇨

### पूर्व निर्धारित क्रम से

कार्यक्रमानुसार 520.22

### पूर्व निवासी

मूल आवासी 618.27

### पूर्व निश्चित

नियत 68.18

पूर्व निर्धारित 328.16

प्रारम्भाधीन 260.27

### पूर्व निश्चितता

नियतता 68.8

### पूर्वपक्ष्यता

पूर्वजातता 62.7

### पूर्व पक्ष

अग्रभाग 994.9

कृष्ण पक्ष 45.2

पूर्व पक्ष 324.11 ⇨

### पूर्व पक्ष प्रस्तोता

पूर्व पक्ष प्रस्तोता 324.12 ⇨

### पूर्व पक्षी

अभियोक्ता 875.5

पूर्व पक्ष प्रस्तोता 324.12

### पूर्व परिहित वस्तु: पहचान

अभिज्ञान 356.11

### पूर्व पवन

पूर्व पवन 85.22 ⇨

### पूर्व पितामह

दादा परदादा [दादी परदादी] 722.4

पूर्वज 727.20

### पूर्व पीठिका

पूर्व पीठिका 466.17 ⇨

भूमिका 447.8

### पूर्व पुरुष [पूर्व स्त्री]

दादा परदादा [दादी परदादी] 722.4

पूर्वज 727.20

### पूर्व प्रचलित

धिर प्रचलित 514.17

### पूर्व प्रज्ञा

स्मृति 356.1

### पूर्व प्रदर्शन

परिकल्प्य प्रदर्शन 520.7

### पूर्व प्रयोग

प्रथम प्रयोग 994.6

### पूर्व प्रजन

वाद प्रस्तुति 324.8

### पूर्व प्रेषित

पुरोगत 1096.8

### पूर्व कल्पनी

नक्षत्र सूची 4.6

### पूर्व भाग

पूर्वार्ध 447.11

### पूर्व भाष्य

नक्षत्र सूची 4.6

### पूर्व भारत

पूर्व भारत 28.6 ⇨

### पूर्व भारत विषयक

पूर्व भारतीय 28.78

### पूर्व भारतीय

पूर्व भारतीय 28.78 ⇨

### पूर्व भाव

भाव अभिव्यक्ति 358.10

### पूर्वभावी

पूर्व कालीन 60.14

### पूर्वभूत

पूर्व कालीन 60.14

भूतपूर्व 65.3

### पूर्व योजना

योजना 520.1

### पूर्व रंग

उपक्रम 521.4

नाट्य आरंभ सूची 468.24

### पूर्वरंग

पूर्वरंग 468.17 ⇨

### पूर्व रंग

पूर्वरंग 468.17

भूमिका 447.8

### पूर्व रात्र

पूर्व रात्र 48.10 ⇨

### पूर्व रूप

अपरिवर्तित रूप 533.3

प्रारूप 520.8

### पूर्व लक्षण

आरंभिक लक्षण 317.8

शकुन 262.1

### पूर्व लिखित

उपरिलिखित 430.21

### पूर्व लिखित भाग्य

प्रारम्भ 260.1

### पूर्ववत

अपरिवर्तित 533.9

यथापूर्व 533.13

पूर्ववततः 533.17

यथापूर्वतः 533.17

### पूर्ववतता

यथापूर्वता 533.5

### पूर्ववत रहना

परिवर्तन न होना 533.7

### पूर्ववर्तिता

पूर्व कालीनता 60.8

### पूर्ववर्ती

पूर्व कालीन 60.14

### पूर्ववर्ती घटना

पूर्व पीठिका 466.17

### पूर्व वाद

अभियोग 875.3

### पूर्व वादी

पूर्व पक्ष प्रस्तोता 324.12

### पूर्व विहित

पूर्व निर्धारित 328.16

### पूर्व वृत्त

पुराण 740.15

### पूर्व शत्रु

धिरशत्रु 706.6

### पूर्व संकेत

कथा सूचना 466.15

### पूर्व संख्या

अंतिम अवसर 70.7

पूर्व सध्या 60.9 ⇨

### पूर्व संभावना

प्रत्याशा 375.5

### पूर्व संभावित

प्रत्याशित 375.9

### पूर्वसर

पुरोगामी 1096.9

### पूर्वसर्ग

उपसर्ग 425.18

### पूर्व सूचना

चेतायनी 917.2

पूर्व सूचना 441.5 ⇨

### पूर्वस्थ

अग्र 994.18

### पूर्व स्थापना

पूर्व पक्ष 324.11

### पूर्व स्थिति

यथापूर्वता 533.5

### पूर्वातिम

उपांतिम 994.14

### पूर्वा

पूर्व 29.11

### पूर्वाकलन

पूर्वाकलन 947.7 ⇨

### पूर्वाग्रह

पूर्व धारणा 343.8

### पूर्वाग्रहपूर्ण

पूर्व धारणाग्रस्त 343.15

### पूर्वाग्रहहीन

पूर्व धारणाहीन 344.13

### पूर्वाचल

उदधाचल 17.10

### पूर्वानिल

पूर्व पवन 85.22

### पूर्वानुभव पर विचार

सिंहावलोकन 330.10

पूर्वानुभव पर विचार करना

सिंहावलोकन करना 330.15

### पूर्वानुमानन

पूर्वाकलन 947.7

### पूर्वानुमानित

प्रत्याशित 375.9

### पूर्वापर

आरोह क्रमिक 991.22

काल क्रमिक 991.24

### पूर्वापरता

क्रमिकता 991.2

### पूर्वापर संबंध

संदर्भ 437.3

### पूर्वाभास

कथा सूचना 466.15

### पूर्वाभ्यास

आरंभिक अभ्यास 303.6

रिहर्सल 468.16

### पूर्वार्ध

पूर्वार्ध 447.11 ⇨

पूर्वी भूगोलार्ध 10.8

### पूर्वावेदक

अभियोक्ता 875.5

### पूर्वाशा

पूर्व 29.11

प्रत्याशा 375.5

### पूर्वाहन

कालचक्र नामि सूची 36.5

पूर्वाहन 47.7 ⇨

### पूर्वाहन (दे.)

दिन दूसरा पहर 49.4

### पूर्वी

पूर्व भारतीय 28.78

पूर्वी 29.32 ⇨

### पूर्वी गोलार्ध

पूर्वी भूगोलार्ध 10.8

### पूर्वी पठार

भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17.1

### पूर्वी भूगोलार्ध

पूर्वी भूगोलार्ध 10.8 ⇨

### पूर्वीय

पूर्वी 29.32

### पूर्वांक

उपरिलिखित 430.21

पूर्व कथित 430.20

### पूर्वांतर

उत्तर पूर्व 29.15

### पूर्वावय

सूर्योदय 5.8

### पूल

पूला 686.19

### पूल (ऌ)

बिलियर्ड 478.3

होज 18.14

### पूला

पूला 686.19 ⇨

### पूली

छोटा पूला 686.20

### पूल्य

थोथा अनाज 187.5

### पूवा

पूवा 200.20

### पूष

पूष 43.16

### पूषण

पूषा 773.37

### पूषन

पूषा 773.37

पूषा	पृथक्करण	क्षेत्र 34.1	पृथ्वीपुत्र
ईंद्र नगर अमरावती 773 7	घयन 1009 2	तैत्तिरीय देवता सूची 772 35	मगल ग्रह 7 7
चंद्र कला सूची 8 4	दांपत्य विच्छेद 804 6	पंचभूत सूची 78.9	पृथ्वी: मध्यम परत
पूषा 773.37 ⇌	पृथक्करण 1009.1 ⇌	पृथ्वी 9 1 ⇌	भू प्रावार 9 10
बारह आदित्य सूची 777 4	विलग्नन 1011.1	पृथ्वी 774 52 ⇌	पृथ्वी: माता
सूर्य 8 1	विरलेषण 427 19	ब्रह्मा: चरण सूची 766 3	अरुघती 787 9
पूषात्मज	पृथक्कुल	सीर मंडल ग्रह सूची 7 4	पृथ्वीय
ईंद्र 773.5	परवंशी 727.31	पृथ्वी (दे.)	पृथ्वीय 9.21 ⇌
पूष	पृथक्कृत	पृथ्वी 774.52	पृथ्वीय आकाश
पौष 43 16	छंटा [छंटी] 1009 20	पृथ्वी: अंडाकार मानचित्र	वायु मंडल 2 6
पृच्छक	दियोगित 388 7	पृथ्वी अंडाकार मानचित्र 10.18 ⇌	पृथ्वीराज
जिज्ञासु 305 45	पृथक्किया	पृथ्वी: अक्ष	राजा 882.6
प्रश्न कर्ता 333 24	पृथक्करण 1009 1	पृथ्वी: अक्ष 10 9 ⇌	पृथ्वी लोक
पृच्छन	पृथक्तावाद	पृथ्वी आकाश	इहलोक 258 11
पृच्छन 333.3 ⇌	अलगाववाद 697 2	धरती आकाश 2.2	पृथ्वी: वर्षों में विभाजक पर्वत
पृच्छा	पृथक्तावादी	पृथ्वी आकाश: समाहार	वर्ष पर्यंत 16.8
जिज्ञासा 305 22	अलगाववादी 697 13	हिरण्य गर्भ 764.32	पृथ्वी बल्लभ
पृच्छा 333.2 ⇌	पृथगात्मा	पृथ्वी आवर्तन	राजा 882.6
स्पष्टीकरण मॉग 875 19	इतर 945 5	पृथ्वी आवर्तन 5.1 ⇌	पृथ्वीराज
पृच्छित	पृथग्गोत्र	पृथ्वी आवर्तन काल	राजा 882 6
प्रश्नित 333 23	परवंशी 727 31	आवर्तन काल 5.2	पृथ्वी सूर्य: औसत दूरी
पृतना	पृथ्वी	पृथ्वी उद्धारक	अंतरिक्षीय एकक 959 29
मिगेड 932.30	पृथ्वी 9 1	बराह अवतार 769 34	पृथ्वी से उठना
सेना 932 1	पृथा	पृथ्वी: ऊपरी परत	अंतरिक्ष गमन करना 1081 49
पृतन्यु	कुती 771.49	भू परपटी 9 9	पृदाकु
शत्रु 706.2	पाणि 150 1	पृथ्वी: कोख	बाघ 127 55
पृथक	पाणि पेट 150.2	भूगर्भ 9 6	वृक्ष 111.18
अमिश्रित 1008 30	पृथापति	पृथ्वीगर्भ	पृश्नि
असदृश 310 6	पांडु 771 71	गणेश 773 22	देवकी 771 61
रहित 1007.3	पृथासुत	पृथ्वी: गोला	पृषत
विलग्न 1011 5	मीम 771 76	पृथ्वी: गोला 10 3 ⇌	चितकबरा हिरन 127.44
विशिष्ट 312.15	युधिष्ठिर 771.80	पृथ्वी: ग्लोब	पृषाकरा
सामंजस्यहीन 701.9	पृथिवी	पृथ्वी अंडाकार मानचित्र 10 18	पाषाण बाट 982.28
हटा [हटी] 32.9	पृथ्वी 9.1	पृथ्वी चौर	पृषोवर
पृथक कर्ता	पृथु	हिरण्याक्ष 769 35	वायु 85 1
वियोग कर्ता 388.11	अत्यधिक 944 7	पृथ्वीतर आकाश	पृष
पृथकघर	दानव सूची 783 13	अंतरिक्ष 2.3	प्रश्नित 333 23
पृथकघर 697.12 ⇌	बृहत 979 15	पृथ्वीतर राकेट	पृष्टि
पृथकघरता	मोटा [मोटी] 965.12	अंतरग्रह राकेट 1075 7	पृच्छा 333 2
पृथकघर्या 697.1	विष्णु 768.1	पृथ्वी तल	पृष्ठ
पृथकघर्या	विष्णु: चौबीस अवतार सूची 769.9	संपूर्ण धरातल 25.1	उत्तल 985.4
पृथकघर्या 697.1 ⇌	विस्तीर्ण 981 10	पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा	कामज पटल 990.5
पृथकता	पृथुल	पृथ्वी परिक्रमण 5.3	कामज. शीट 415 10
अभिभ्रण 1008 17	अत्यधिक 944 7	पृथ्वीधर	पृष्ठ-
अभिभ्रतता 1008 18	चौकाई युक्त 965.11	कपुआ 123 2	परघ 995 16
इतरता 945.2	बृहत 979 15	पृथ्वीधर 9 2 ⇌	पृष्ठ
विलग्नता 1011.2	मोटा [मोटी] 965 12	पृथ्वीधर सूची	परघभाग 995.6
हटापन 32.3	विस्तीर्ण 981.10	पृथ्वीधर सूची 9.3 ⇌	पीठ 147.8
पृथकपिंड	स्थूलकाय 154.29	पृथ्वी: ध्रुव	पृष्ठ 447.20 ⇌
पृथकपिंड रिश्तेदार 729.9	पृथुलता	पृथ्वी: ध्रुव 10.10 ⇌	पृष्ठक
पृथकपिंड रिश्तेदार	चौकाई 965.4	पृथ्वीनाथ	नौका पृष्ठ 1073.31
पृथकपिंड रिश्तेदार 729.9 ⇌	त्रिआयामता 964.11	-राजा 882 6	पृष्ठ केश
पृथक रहना	मोटाई 965.8	पृथ्वी: निचली परत	पृष्ठ केश 137.4 ⇌
पृथक रहना 697.9 ⇌	पृथुवर	भू कोक 9.11	पृष्ठग
मिश्रित न होना 1008.24	उन्नतोदर 158.29	पृथ्वी परिक्रमण	परु आरूढ़ 1082.30
पृथक होने का भाव	पृथ्वी	पृथ्वी परिक्रमण 5.3 ⇌	पृष्ठतः
इतरता 945.2	अदिति 787.7	पृथ्वी परिक्रमा काल	परघतः 995.18
	कर्मसाक्षी देवता सूची 772.18	परिक्रमा काल 5.4	

## पृष्ठता

पृष्ठता  
परघता 995 4  
पृष्ठदंड  
रीड 133.14  
पृष्ठ द्वार  
पृष्ठ द्वार 608.6 ⇐  
पृष्ठ पोषक  
संरक्षणपूर्ण सहायक 700.27  
पृष्ठ पोषण  
संरक्षणपूर्ण सहायता 700 13  
पृष्ठ भाग  
परघभाग 995.6  
पृष्ठ भाग: चौकीदारी स्थान  
कुदास 1073.26  
पृष्ठ भाग स्पर्श करना  
पृष्ठ भाग स्पर्श करना 714.8 ⇐  
पृष्ठभूमि  
परघभूमि 995.5  
पूर्व पीठिका 466.17  
बैकग्राउंड 404 22  
पृष्ठ रक्षक  
संरक्षणपूर्ण सहायक 700.27  
पृष्ठ रक्षक सेना  
पृष्ठ रक्षक सेना 933.4 ⇐  
पृष्ठ रक्षण  
संरक्षणपूर्ण सहायता 700.13  
पृष्ठ रज्जु  
रीड रज्जु 131.15  
पृष्ठवर्तिता  
परघता 995 4  
पृष्ठवर्ती  
परघ 995.16  
पृष्ठ वास्तु  
ऊपरी मजिल 612.6  
पृष्ठवाह  
भार वाहक बैल 127 15  
पृष्ठ संख्या  
पृष्ठ संख्या 447.21 ⇐  
पृष्ठ सज्जा  
पृष्ठ सज्जा 447.22 ⇐  
पृष्ठस्थ  
परघ 995.16  
पृष्ठस्थता  
परघता 995 4  
पृष्ठांक  
पृष्ठ संख्या 447.21  
पृष्ठांकन  
पृष्ठांकन 631.13 ⇐  
पृष्ठागमन  
अनुगमन 1096.2  
पृष्ठानीक  
सेना पृष्ठ 933.3  
पृष्ठांश  
पृष्ठ रक्षक सेना 933.4  
पृष्ठास्थि  
रीड 133.14  
पृष्ठिका  
परघभूमि 995.5

बैकग्राउंड 404.22  
पृष्ठीय  
परघ 995.16  
पृष्ठीय 147.12 ⇐  
पृष्ठय  
पृष्ठीय 147.12  
पृष्ठि  
एकी 149.18  
नीका पृष्ठ 1073.31  
प्रकाश किरण 288.1  
पेंग  
झोंटा 1034.2  
पेंग बहाना  
झोंटा लेना 1034.20  
पेंच  
अलबेट 975.10  
पेघ 1016.19  
पेघ: झुकी 1016.20  
प्रीपेलर 1073.3  
पेंचक  
पेघक 575.8  
पेंचदार  
उच्चक्रिल 973.12  
पेंचदार डक्कन बाला लोटा  
पेचर डक्कन बाला लोटा 694.18 ⇐  
पेंट (अँ)  
तेल रंग 290.6  
पेंटिंग (अँ)  
केनवस चित्र 404.5  
चित्र 404.1  
पेंठ  
बाज़ार 663.1  
साप्ताहिक बाज़ार 663.7  
पेंचुकी  
कुंकीनी 85 23  
पेंदा  
जलयान: पेंदा 1073.32  
नितंब 148.13  
नितल 985.9  
निम्नता: उपमान सूची 983.7  
पेंदी  
गुदा 152.7  
नितल 985.9  
पेंपें  
झीक 386.8  
पेंपें करना  
झीकना 386.22  
पे  
उच्चत: 982.12  
पे (अँ)  
वेतन 643.23  
पे आर्डर  
पे आर्डर 632.27 ⇐  
पे आर्डर (अँ)  
पे आर्डर 632.27  
बैक पे आर्डर 631.12  
पेएबल अँन डिमांड (अँ)  
मॉगदेय 634.30

पेघ  
अलबेट 975.10  
उच्चक्रिल रेखा 968.15  
उदर पीका 392.5  
कुक 1046.9  
कूट युक्ति 819.8  
परेशानी 519.4  
पेघ 1016.19 ⇐  
पेघ: झुकी 1016.20  
मरोड़ 975.11  
मरोड़ा 216.13  
मोड़ 974.10  
यंत्र 558.10  
यंत्र: अवयव 558.18  
लपेट 575.1  
पेघ उच्चक्रण  
उच्चक्रण 1033.10  
पेघक  
पेघक 575.8 ⇐  
पेघकन  
लपेटन 575.2  
पेघकश  
पेघकश 559.23 ⇐  
पेघकस  
पेघकश 559.23  
पेघ कसना  
पेघ कसना 1016.41 ⇐  
पेघ कसाई  
पेघन 1016.7  
पेघकी  
उल्लू 126.14  
हाथी 127.36  
पेघ: झुकी  
पेघ: झुकी 1016.20 ⇐  
पेघ दर पेघ  
सर्पिल मोड़ 974.13  
पेघदार  
नाटकीय 466.19  
पेघदार 1016.49 ⇐  
समस्यात्मक 333.25  
पेघदार कील  
पेघ 1016.19  
पेघदार डक्कन  
पेघदार डक्कन 675.7 ⇐  
पेघदार वृत्त  
उच्चक्रिल रेखा 968.15  
पेघन  
पेघन 1016.7 ⇐  
पेघपाघ  
उलझन 573.6  
पेघ लगा  
पेघित 1016.48  
पेघ लगाई  
पेघन 1016.7  
पेघ लगाना  
पेघ कसना 1016.41  
पेघ स्त्रिंग  
कुंडली स्त्रिंग 1050.21

पेघित  
पेघित 1016.48 ⇐  
पेघिल  
उलझा [उलझी] 573.20  
कूट 823.12  
पेघदार 1016.49  
पेघिश  
अतिसार 216.14  
पेघीदगी  
उलझन 573.6  
पेघीदा  
असमाधान्य 335 12  
उलझा [उलझी] 573.20  
कूट 823.12  
दुर्बोध्य 519.23  
समस्यात्मक 333 25  
पेघीला [पेघीली]  
पेघदार 1016.49  
पेघोजन  
नाटकीयता 466.2  
सर्पिलता 974.5  
सर्पिल मोड़ 974 13  
पेघोलाब  
अति क्रोध 373.2  
उद्विग्नता 377.4  
पेज (अँ)  
पृष्ठ 447.20  
पेज नंबर (अँ)  
पृष्ठ संख्या 447.21  
पेट  
आधान स्थान 671.17  
आहार मात्रा 182.1  
उदर 148.6  
गर्भाशय 152.14  
घोर खाना 671.21  
धारण क्षमता 966.4  
नीकोदर 1073.34  
पेट 148.1 ⇐  
पोल 271.17  
बरतन: पेटा 680.28  
मध्य भाग 996.3  
पेटक  
थैला 673.1  
पेट का पिचता  
जनन संबंध 716.1  
पेट की आग मिटाना  
भूख मिटाना 180.11  
पेट के बल  
पट 466.25  
पेट के बल लैटन  
सोदर शयन 1027.2  
पेट के बल लोना  
पेट के बल लोना 1027.10 ⇐  
पेटकैयी  
पट 466.25  
सोदरशायी 1027.17  
पेट: झालीपन  
सुधा 180.1

पेट झाली होना  
 भूखा होना 180.8  
 पेट जना [पेट जनी]  
 औरस 716.15  
 पेट बर्ब  
 उदर पीका 392.5  
 पेट पालन  
 आजीविका 650.1  
 पेट पालना  
 भरण पोषण करना 650.16  
 पेट पेड़: रोम  
 पेट पेड़: रोम 135.6 ⇐  
 पेट भरना  
 भूख मिटाना 180.11  
 पेट भराऊ  
 कुया शामक 180.18  
 पेट में छूटे डीङ्गना  
 बहुत भूखा होना 180.9  
 पेट में डालना  
 भूख मिटाना 180.11  
 पेटल  
 उन्नतोदर 158.29  
 पेटा  
 आयतन 966.3  
 जलयान. पेटा 1073.33  
 धारण क्षमता 966.4  
 नदी पेटा 25.13  
 परिधि. अंतर्गत स्थान 972.5  
 पोत: मालकक्ष 1072.37  
 बरतन पेटा 680.28  
 पेटा माप  
 आयतन माप 959.44  
 पेटारा  
 पिटारा 677.12  
 पेटिका  
 पेटा 676.20  
 पेटा  
 कमर पेटा 571.5  
 चमड़ा पेटा 571.2  
 चल पट्टा 1076.26  
 चौकोर गठरी 674.3  
 पिटारी 677.13  
 पेटा 676.20 ⇐  
 सद्गुरु 676.15  
 सद्गुरुची 676.18  
 पेटाकोट  
 पेटाकोट 587.12 ⇐  
 पेटाकोट (अं)  
 पेटाकोट 587.12  
 पेटा चरखा  
 गांधी चरखा 582.8  
 पेटु  
 अत्याहारी 182.15  
 उन्नतोदर 158.29  
 पेटुपन  
 अत्याहार 182.4  
 पेट्ट  
 पेट्ट 621.14 ⇐

पेट्ट (अं)  
 पेट्ट 621.14  
 पेट्ट लैवर  
 पेट्ट लैवर 582.26 ⇐  
 पेट्ट लैवर (अं)  
 पेट्ट लैवर 582.26  
 पेट्ट स्वामी  
 पेट्ट स्वामी 621.15 ⇐  
 पेट्टिड (अं)  
 पेट्टिकृत 621.29  
 पेट्टित  
 पेट्टिकृत 621.29  
 पेट्टी (अं)  
 पेट्ट स्वामी 621.15  
 पेट्टिकृत  
 पेट्टिकृत 621.29 ⇐  
 पेट  
 बाज़ार 663.1  
 महल्ला 619.6  
 साप्ताहिक बाज़ार 663.7  
 पेटा  
 पेटा 189.27 ⇐  
 पेटा: मिठाई 203.22  
 साग सब्जी चुची 189.4  
 पेटा (बं.)  
 कदू 189.10  
 पेटा: मिठाई  
 पेटा: मिठाई 203.22 ⇐  
 पेट  
 वृक्ष 111.18  
 पेट (अं)  
 मूल्य प्रदत्त 664.29  
 पेट पीधा: क्लम  
 पेट पीधा क्लम 113.7 ⇐  
 पेटा  
 पेटा 203.23 ⇐  
 पेटा  
 तना 114.7  
 पीद 113.5  
 लोई 195.15  
 पेट  
 गांधी मूल 148.5  
 पेट 148.9 ⇐  
 पेट-जीध: जोड़  
 काष्ठ 148.10  
 पेटा  
 पेटा 662.5 ⇐  
 पेट (अं)  
 कागाज़ 415.9  
 निबंध 449.15  
 प्रश्नपत्र 322.16  
 शोध लेख 449.18  
 समाचार पत्र 445.1  
 पेटर प्लेट  
 पेटर प्लेट 685.5 ⇐  
 पेटर प्लेट (अं)  
 पेटर प्लेट 685.5

पेटरबैक (अं)  
 पेटरबैक पुस्तक 446.6  
 पेटरबैक पुस्तक  
 पेटरबैक पुस्तक 446.6 ⇐  
 पेय  
 दूध 193.2  
 पेय पदार्थ 208.1  
 पेयकक्ष  
 मद्यकक्ष 209.35  
 पेय जल  
 पेय जल 88.7 ⇐  
 पेय पदार्थ  
 पेय पदार्थ 208.1 ⇐  
 पेयूष  
 प्रसव: सात रात तक दूध 193.3  
 पेराज  
 अड़वाल 1073.22  
 पेरना  
 कष्ट देना 392.16  
 निष्कर्षित करना 83.11  
 पेरने बाला  
 निष्कर्षक 83.15  
 पेरा  
 निष्कर्षक 83.15  
 पेरा  
 पेड़ा 203.23  
 पेरा [पेरी]  
 निष्कर्षित 83.14  
 पेराई  
 निष्कर्षण 83.1  
 पेल  
 ठोक 1051.15  
 धकेल 1051.12  
 पेलना  
 ठोकना 1051.30  
 धकेलना 1051.28  
 निष्कर्षित करना 83.11  
 प्रक्षेपण करना 1052.14  
 पेलव  
 कोमल स्वभावी 837.11  
 पेल्ला  
 आक्रमण 914.3  
 जनाकीर्णता 616.11  
 धक्का 1051.13  
 पेल्लाई  
 ठोक 1051.15  
 निष्कर्षण 83.1  
 पे लोड (अं)  
 भार क्षमता 966.5  
 माल भार 1061.7  
 पेबर्क (अं)  
 ईट: सड़क 1063.41  
 सड़क पार्व 1064.1  
 पेबसी  
 प्रसव: सात रात तक दूध 193.3  
 पेरा  
 अग्रभाग 994.9  
 उपस्थित 1021.9

प्रतिपादित 326.14  
 प्रस्तावित 329.18  
 पेश आना  
 व्यवहार करना 828.5  
 पेशाकक्ष  
 कृपाण 924.1  
 पेशा करवा  
 उपहार प्रदाता 640.15  
 पेशा करना  
 परोसना 183.35  
 प्रतिपादन करना 326.7  
 प्रदान करना 638.6  
 मयित करना 468.32  
 पेशा कर्ता  
 उपस्थित कर्ता 1021.10  
 पेशाकश  
 उपहार 640.2  
 परिकल्प प्रदर्शन 520.7  
 प्रथम करण 505.7  
 प्रस्ताय 329.1  
 शो 468.5  
 पेशाकार  
 उपस्थित कर्ता 1021.10  
 पेशाकार 874.29 ⇐  
 पेशाक्षेत्र  
 अग्रगामी सेना 933.2  
 पेशागाह  
 दरबारे आम 695.9  
 न्यायालय 874.5  
 पेशागी  
 अग्रिम देय 634.7  
 बयाना 658.9  
 पेशातर  
 पूर्वतः 60.19  
 पेशादस्त्री  
 प्रथम आक्रमण 914.6  
 प्रथम करण 505.7  
 पेशाबंदी  
 कथा प्रस्तावना 466.13  
 पेशारधी  
 पुरोगमन 1096.1  
 पेशाराज  
 राजगीर 599.20  
 पेशारी  
 अग्रगामी सेना 933.2  
 अग्रिम सदेश वाहक 443.5  
 पुरोगामी 1096.9  
 पेशाल  
 कोमल स्वभावी 837.11  
 पेशाया  
 अगुआ 346.3  
 इमान 744.16  
 नेता 346.2  
 मुखिया 852.7  
 राज [रानी]: पक्ष (मठ)सूत्र 882.11  
 पेशावाई  
 नेतृत्व 346.1

## पेशावाज

### पेशावाज

लहंगा 586.12  
 पेशा  
 वेश्या वृत्ति 807.2  
 व्ययसाय 650.9  
 पेशानी  
 ऊपरी हाशिया 1000.13  
 प्रारब्ध 260.1  
 मस्तक 140.12  
 पेशाब  
 मूत्र 216.15  
 पेशी  
 उपस्थिति 1021.2  
 पेशी 876.5 ⇨  
 फल छिलका 116.10  
 मास पिंड 132.2  
 स्नायु 131.13  
 पेशीनगोई  
 प्रारब्ध कथन 261.3  
 पेशोवर  
 व्ययसायी 650.24  
 पेशोवर कलाकार  
 पेशोवर कलाकार 397.18 ⇨  
 पेशोवरी  
 प्रयीणता 303.8  
 पेशोपस  
 विमर्श 330.11  
 पेशण  
 पिसाई 540.6  
 पेशणी  
 खरल 560.11  
 घक्की 560.13  
 सिल 560.18  
 पेशी  
 पिशाचिनी 786.9  
 पेश्ट  
 पीठी 192.13  
 पेश्टन  
 पिट्ठी पिसाई 540.7  
 पेस्टल (अं)  
 पेस्टल रंग 290.8  
 पेस्टल रंग  
 पेस्टल रंग 290.8 ⇨  
 पेस्ट्री  
 पेस्ट्री 202.43 ⇨  
 पेस्ट्री (अं)  
 पेस्ट्री 202.43  
 पेहँटा  
 फूट 190.25  
 पैकडा  
 नकेल 555.18  
 बेडी 868.25  
 पैगिन (अं)  
 उकानहीन पक्षी सूची 126.5  
 जलपक्षी सूची 126.7  
 पैघ  
 मोर पूँछ 151.13

पैठ (अं)  
 पतलून 586.3  
 पैठ पाकिट (अं)  
 साइड पाकिट 672.3  
 पैठ बुरशर्ट  
 जोडा सूची 583.17  
 पैठ हाउस  
 पैठ हाउस 614.26 ⇨  
 पैठहाउस (अं)  
 पैठ हाउस 614.26  
 पैठोमात्रम (अं)  
 मूक अभिनय 464.11  
 पैठ  
 साप्ताहिक बाज़ार 663.7  
 पैक  
 एक पद 1083.2  
 पैकल (अं)  
 प्रालंब सूची 1024.4  
 पैकुलम  
 पैकुलम 50.28 ⇨  
 पैकुलम (अं)  
 पैकुलम 50.28  
 प्रालंब सूची 1024.4  
 पैकुलम गति  
 पैकुलम गति 1035.9 ⇨  
 पैडैट  
 पैडैट 228.50 ⇨  
 पैडैट (अं)  
 पैडैट 228.50  
 प्रालंब सूची 1024.4  
 पैत  
 घात प्रतीक्षा 914.1  
 पैतरा  
 पैतरा 486.20 ⇨  
 पैतरा तोड़  
 पैतरा तोड़ 486.21 ⇨  
 पैतरी  
 जनाना जूता 588.15  
 पैतरेबाज़  
 पैतरेबाज़ 486.28 ⇨  
 पैदा  
 बरतन पैदा 580.26  
 पैदी  
 बरतन पैदा 680.26  
 पैकलेट (अं)  
 प्रघार पत्र 442.6  
 पैशन  
 पैशन 643.32 ⇨  
 पैशन (अं)  
 पैशन 643.32  
 पैशन भोगी  
 पैशन भोगी 643.33 ⇨  
 पैशनर (अं)  
 पैशन भोगी 643.33  
 पैसिल  
 पैसिल 416.8 ⇨  
 पैसिल चाकू  
 पैसिल शार्पनर 416.10

पैसिलदान  
 पैसिल बाक्स 416.21  
 पैसिलदानी  
 पैसिल बाक्स 416.21  
 पैसिल बाक्स  
 पैसिल बाक्स 416.21 ⇨  
 पैसिल बाक्स (अं)  
 पैसिल बाक्स 416.21  
 पैसिल शार्पनर  
 पैसिल शार्पनर 416.10 ⇨  
 पैसिल शार्पनर (अं)  
 पैसिल शार्पनर 416.10  
 पै  
 अवरयमेव 68.21  
 उच्यतः 982.12  
 पैक  
 पैक 1014.2 ⇨  
 पैक (अं)  
 डिब्बा 676.1  
 तारा गड्डी 686.13  
 थैली 673.12  
 पैक 1014.2  
 सिगरेट थैली 676.7  
 पैक करना  
 पैक करना 1014.6 ⇨  
 पैक करने वाला  
 पैक करने वाला 1014.8 ⇨  
 पैक कृत  
 पैकड 1014.7  
 पैकः प्रकार सूची  
 पैक प्रकार सूची 1014.3 ⇨  
 पैकार (अं)  
 पैक करने वाला 1014.8  
 पैकिंग  
 पैकिंग 1014.1 ⇨  
 पैकिंग (अं)  
 पैकिंग 1014.1  
 पैकिट बनाना  
 पैक करना 1014.6  
 पैकी  
 नट खेल 473.9  
 बाजीगर 473.18  
 बाजीगरी 473.17  
 पैकेज (अं)  
 पैक 1014.2  
 पैकेजिंग (अं)  
 डिब्बाबंदी 1014.4  
 पैकिंग 1014.1  
 पैकेजित  
 डिब्बाबंद 1014.9  
 पैकेज्ड (अं)  
 डिब्बाबंद 1014.9  
 पैकेट (अं)  
 तारा गड्डी 686.13  
 पुलिदा 674.8  
 पैकड  
 पैकड 1014.7 ⇨

पैकड (अं)  
 पैकड 1014.7  
 पैगाबर  
 दूत 443.9  
 धर्म प्रवर्तक 742.27  
 पैगाबर 791.1 ⇨  
 मसीहा 791.3  
 मुहम्मद 791.20  
 संदेश वाहक 443.3  
 पैगाबर मुहम्मद  
 मुहम्मद 791.20  
 पैगाबरयाद  
 पैगाबर याद 760.20  
 पैगाबर याद  
 पैगाबर याद 760.20 ⇨  
 पैगाबर विषयक  
 पैगाबर विषयक 791.29 ⇨  
 पैगाबर सलाम  
 मुहम्मद 791.20  
 पैगाबर सूची  
 पैगाबर सूची 791.2 ⇨  
 पैगाबरी  
 ईश्वरीय संदेश वहन 443.7  
 संदेश वहन 443.2  
 पैग  
 पैग 209.39 ⇨  
 पैग (अं)  
 तंबू खूँटा 600.25  
 पैग 209.39  
 पैगाम  
 विवाह प्रस्ताव 799.29  
 संदेश 443.1  
 पैगामबर  
 पैगाबर 791.1  
 संदेश वाहक 443.3  
 पैगामी  
 दूत 443.9  
 पैघवर्क  
 पैघवर्क 577.21 ⇨  
 पैघवर्क (अं)  
 पैघवर्क 577.21  
 पैजनिया  
 पैजनी 228.19  
 पैजनी  
 पैजनी 228.19 ⇨  
 पैजली (अं)  
 बूटा तुरंज 578.17  
 पैजामा  
 पाजामा 586.7  
 पैजार  
 जुता 588.14  
 पैटर्न  
 पैटर्न 520.14 ⇨  
 पैटर्न (अं)  
 पैटर्न 520.14  
 पैटी कैरा (अं)  
 रोकड़ उद्यत 630.10



पेट्रियार्क (अं)	पैडल नौका	पैडल चलना	पैन फ्रिड (अं)
बिशाप 744.34	नौका सूची 1072.3	पैडल चलना 1083.18 ⇨	पत्र मित्र 705.14
पेट्रोकेमिकल्स (अं)	पैडल वील	पैडल दीड़	पैनलिटिमेट (अं)
पेट्रो रसायन 110.19	पैडल वील 1073.4 ⇨	पैडल दीड़ 484.7 ⇨	उपांतिम 995.14
पेट्रोमिक्स (अं)	पैडल वील (अं)	पैडल न चलना	पैन होल्डर (अं)
गैसलाइट 285.7	पैडल वील 1073.4	आरोहित होना 1082.25	पैन 416.11
पेट्रो रसायन	पैकिंगी	पैडल न चलना: कर्म	पैना
पेट्रो रसायन 110.19 ⇨	दर्शक अलिंद 471.5	आरोहण 1082.1	अंकुरा 555.20
पेट्रोल	पैकी	पैडल पारपथ	कोघनी 555.22
पेट्रोल 110.18 ⇨	चीखट. अधोकाष्ठ 609.3	पैडल पारपथ 1064.13 ⇨	पैना [पैनी]
पेट्रोल (अं)	दर्शक अलिंद 471.5	पैडल पैडल	तीक्ष्ण 270.19
खनिज तेल 110.18	पैकी 613.3 ⇨	पैडल 1083.28	तीक्ष्णघी 301.33
गहरी पहरेदार 908.15	सोपान पथ 613.10	पैडल मार्ग	पैनाना
पेट्रोल 110.18	पैकीदार रास्ता	सड़क पारव 1064.1	तीक्ष्ण करना 270.15
पेट्रोल इंजन	सोपान पथ 613.10	पैडल मार्ग	पैनापन
पेट्रोल इंजन 1078.5 ⇨	पैतरा	सलामी परेड 1083.10	तीक्ष्णता 270.6
पेट्रोल कार (अं)	पैतरा 486.20	पैडल यात्रा	पैनिनगुला (अं)
पुलिस गाड़ी 1070.14	स्थानक 464.28	पदयात्रा 1087.8	प्रायद्वीप 26.9
पेट्रोल मोटर (अं)	पैताना	पैडल रास्ता	पैनी नजर
पेट्रोल इंजन 1078.5	पैताना 594.21 ⇨	पगडडी 1063.47	तीक्ष्ण दृष्टि 282.2
पेट्रोलियम उत्पाद	पैताम	पैडल सेना	तीक्ष्ण बोध क्षमता 301.13
खनिज तेल 110.16	खौंघा 970.10	पद सेना 932.12	पर्यवेक्षण 284.21
पैठ	पैतामह	पैडल सैनिक	पैनी समझ
गहन अध्ययन 321.24	ददिया 722.47	पैडल सैनिक 934.7 ⇨	तीक्ष्ण बोध क्षमता 301.13
गहरी खोज 336.6	पैतूक 727.43	पैदा	पैन्थ
टोह 336.12	ब्रह्मा विषयक 766.17	उत्पन्न 546.9	मोटाई 965.8
डुबकी 1031.10	पैतूक	रचित 527.12	पैपसिन
तथ्यान्वेषण 336.1	आनुवंशिक 727.39	पैदाइशा	पैपसिन 179.8 ⇨
पैठ 1094.14 ⇨	दायागत 623.27	उत्पत्ति 546.5	पैपसिन (अं)
प्रवेश्यता 1094.2	पिता विषयक 717.12	जन्म 248.1	पैपसिन 179.8
बोध क्षमता 301.12	पैतूक 727.43 ⇨	जन्मभूमि 34.13	पैप्लीकोला (अं)
मर्मज्ञता 305.16	स्वःभाविक 836.11	पैदाइशी	कोला 208.9
पैठन	पैतूक घर	आनुवंशिक 727.39	पैबंद
डुबकी कर्म 1031.11	ददिहाल 601.5	पैदाइशी गुलाम	चकती 938.13
पैठना	पैतूक घर 601.4 ⇨	गृहज दास 651.14	धेगल्ली 577.10
अंदर होना 999.8	पैतूकता	पैदा करना	धज्जी 938.25
गहरी खोज करना 336.19	आनुवंशिकता 727.17	अर्जित करना 648.4	पेड़ पीधा क्रलम 113.7
घुमना 270.11	पैतूक परिवार	उत्पादन करना 546.7	पैबंदकारी
टोहना 336.22	पिता पक्ष 722.3	जनन करना 243.8	क्रलम लगाई 548.11
डुबकी लगाना 1031.21	पैतूक संपत्ति	पैदायशी	पैबंदी
परिचय बढाना 704.17	पैतूक संपत्ति 624.7 ⇨	स्वाभाविक 836.11	क्रलमी 548.54
पैठना 1094.23 ⇨	पैलव्य	पैदायक	जारज 716.18
पैठा [पैठी]	कोलेस्टेरोल 132.7	उत्पाद 546.1	पैमक
मुना [मुनी] 270.17	पैत्रकता	उत्पाद होना 546.8	पैमक गोटा 571.38
पैठा [पैठी] 1094.30 ⇨	दायागसता 623.19	जन्म लेना 248.8	पैमक गोटा
सुरजित 291.16	पैथला [पैथली]	पैन	पैमक गोटा 571.38 ⇨
पैठाना	उथला [उथली] 984.8	पैन 416.11 ⇨	पैमाइशा
घोंपना 270.14	पैथोलाजिकल टेस्ट (अं)	पैन (अं)	क्षेत्र मापन 599.17
पैठार	विकार परीक्षा 171.6	पाक भांड सूची 682.2	क्षेत्र मापन 959.33
प्रवेश द्वार 608.3	पैथोलॉजिस्ट (अं)	पैन 416.11	मापन 958.2
पैठी	विकार परीक्षक 171.15	फ्राउनटेन पैन 416.16	सर्वेक्षण 284.23
टोही 336.27	पैथल	फ्राईंग पैन 682.15	पैमाइशी टेप
पैठ (अं)	पैडल 1083.28 ⇨	पैनकेक	पैमाइशी टेप 571.21 ⇨
भा: फ्रात्सी 587.6	पैडल सैनिक 934.7	पैनकेक 206.10 ⇨	पैमाना
स्टैप पैठ 414.20	यानहीन 1082.33	पैन: निब	पान पात्र 684.1
पैठल (अं)	सेना: चार अंग सूची 932.10	निब 416.17	प्याला 684.12
मशीन: पचाश्रय 596.22	पैडल चलन		मद्यपान पात्र 209.38
	पद चरण 1083.1		मानदंड 957.5

## पैयों

मापी 958 3  
समीक्षा मापदंड 398.4  
पैयों  
पैदल 1083.28  
पैर 149 12  
पैया  
थोधा अनाज 187.5  
पैर  
आधार सूची 596.2  
एक पद 1083 2  
घरण 150.9  
टॉग 149 15  
दो: उपमान सूची 948 20  
निम्नता. उपमान सूची 983.7  
पदधिहन 867 4  
पाया 596 15  
पैर 149.12 ⇌  
पैर छच्छना  
डगमगाना 1084 35  
धैर्य भग होना 395 18  
पैर उठा कर हथेली पर चलना  
मोरचाल चलना 1084.38  
पैर गाड़ी  
साइकिल 1071 48  
पैर चौकी  
पैर चौकी 596.17 ⇌  
पैर घुआई  
घरण स्पर्श 1060.2  
पैर: टैक  
पदाश्रय 596 18  
पैर धुलाई  
पद प्रक्षालन 1059 18  
पैरना  
पार तरना 1097.10  
पैर: पट्टी  
पटुका 588 5  
पैर पकाई  
घरण स्पर्श 1060 2  
पैर फिराई  
पैर फिराई 800.23 ⇌  
पैर फैलाव  
पैर फैलावनी 1083.53  
पैर फैलावनी  
पैर फैलावनी 1063.53 ⇌  
पैर में चक्कर  
घलिष्णुता 1090.2  
पैरबी  
प्रतिपादन 326.1  
मंडन 326 2  
समर्थन 885 7  
सिफारिश 841 19  
पैरबी करना  
प्रतिपादन करना 326 7  
पैरबीकार  
प्रतिपादक 326 16  
मंडन कर्ता 326.17  
समर्थक 885.36

पैर: स्थिति  
मंडल 464.24  
पैरछन  
पैरछन 585.25 ⇌  
पैरहा  
घरसा चालक 19.23  
पैरकुलेटर (ऑ)  
बच्चा गाड़ी 1071.26  
पैराई  
तरण 483.20  
पैराक  
तैराक 483.2  
पैरागोला (ऑ)  
परवलय 972.3  
पैराग्राफ  
पैराग्राफ 424.8 ⇌  
पैराग्राफ (ऑ)  
पैराग्राफ 424.8  
पैराट्टप (ऑ)  
छत्र सेना 932 18  
पैराट्टपर  
पैराट्टपर 1081.38 ⇌  
पैराट्टपर (ऑ)  
छाता सैनिक 934.12  
पैराट्टपर 1081.38  
पैराना  
जलावतारण करना 1080.37  
पैरामीटर (ऑ)  
घल सीमा 1001 4  
पैराशूट  
पैराशूट 1074.9 ⇌  
पैराशूट (ऑ)  
पैराशूट 1074 9  
पैराशूट से उत्तरना  
पैराशूटिंग करना 1081.48  
पैराशूटिंग  
पैराशूटिंग 1081.36 ⇌  
पैराशूटिंग (ऑ)  
पैराशूटिंग 1081 36  
पैराशूटिंग करना  
पैराशूटिंग करना 1081.48 ⇌  
पैराशूटिस्ट  
पैराशूटिस्ट 1081.37 ⇌  
पैराशूटिस्ट (ऑ)  
पैराशूटिस्ट 1081 37  
पैरिस्कोप  
पैरिस्कोप 283.8 ⇌  
पैरिस्कोप (ऑ)  
पैरिस्कोप 283.8  
पैरी  
दैंवरी 548 21  
पाज़ेब 228.18  
पीकी 727.27  
पैकी 613 3  
पैर फैलावनी 1063.53  
मशीन. पदाश्रय 596.22  
पैरलल (ऑ)  
समांतर 1026 7

पैरलैलिपिपिड (ऑ)  
समांतर फलक 977.20  
पैरलैलिपिय (ऑ)  
समांतरता 1026.1  
पैरों  
पैदल 1083.28  
पैरों चलना  
पैदल चलना 1083.18  
पैरों पढ़ना  
गिड़गिड़ाना 350.13  
दया याचना करना 834.10  
पैरों पर होना  
ऊर्ध्वमुख होना 1023.7  
पैरों में  
निम्नतः 983.6  
पैरोकार  
प्रतिपादक 326.16  
मंडन कर्ता 326.17  
पैरोडी  
पैरोडी 450 27 ⇌  
पैरोडी (ऑ)  
पैरोडी 450.27  
पैरोल (ऑ)  
परोल 869.3  
पैलिकन (ऑ)  
जलपक्षी सूची 126.7  
पैली  
आयतन मापी पात्र सूची 959.58  
पैलेट  
;  
पैलेट 404.34 ⇌  
पैलेट (ऑ)  
पैलेट 404.34  
पैलेस (ऑ)  
महल 802 32  
राज महल 802.34  
पैस (ऑ)  
अपरिष्कृत क्रूर 582.28  
पैवस्त  
अवशोषित 1002.29  
व्यापक 981.12  
संसिक्त 1008.29  
पैशाच  
पैशाधिक 786.16  
पैशाच विवाह  
पैशाच विवाह 799.25 ⇌  
पैशाधिक  
निर्दयतापूर्ण 835.9  
पैशाधिक 786.16 ⇌  
प्रेत साधक 759.13  
पैशाधिकता  
असुरता 783.5  
पैशाची  
पिशाच जातीय 732.17  
रात 48.1  
पैसा  
घन संपत्ति 824.10  
पैसा 629.18 ⇌

पैसा (उपर में पैसा)  
शतारा: उपमान सूची 949.24  
पैसा उठाना  
ऋण लेना 633.28  
पैसंजर (ऑ)  
यात्री 1087.2  
पैसेज (ऑ)  
संक्रमण 1091.3  
पैसेज होकर (ऑ)  
किराया दलाल 1090.17  
पैसे बाला  
घनाढ्य 626.14  
घनाढ्य व्यक्ति 626.5  
पोंगा  
नलया 684.3  
पोंगा  
परंपरावादी 343.23  
मूर्ख 302.7  
पोंगा  
रुक्मिणी 343.24  
पोंगापंथी  
धर्म पाखंडी 825.4  
पोंगापंथी  
परंपरावादी 343.23  
पोंगी  
परछा 562.14  
बॉस: पोला भाग 597.9  
पोंछ  
अंगोछ 221 15  
पोंछाई 218.6  
पोंछना  
अंगोछना 221.24  
पोंछना 218.30 ⇌  
पोंछा  
डस्टर 416.29  
पोंछा 218.16 ⇌  
पोंछा [पोंछी]  
पोंछा [पोंछी] 218.35 ⇌  
पोंछ्या  
कुलौथ 1084.6  
चौकड़ी चाल 1084.25  
पोंई  
अंकुर 113.1  
पोद 113.5  
पोखनरी  
बॉस: पोला भाग 597.9  
पोखर  
पोखरा 18.9  
पोखरा  
पोखरा 18.9 ⇌  
पोखरी  
तलेया 18.8  
पोच  
अबलिष्ठ 159.12  
क्षमताहीन 488.15  
पोषार  
लिपाई पुताई 218.4

पोषारा  
 पोंछा 218.16  
 पोत्र (अ)  
 स्थानक 464.26  
 पोलीटिव इलेक्ट्रोन (अ)  
 पोलीट्रोन 78.16  
 पोलीट्रोन  
 पोलीट्रोन 78.16 ⇨  
 पोलीट्रोन (अ)  
 पोलीट्रोन 78.16  
 पोत  
 गठरी 674.2  
 छोटा डेर 886.7  
 बड़ी गठरी 674.5  
 सधित निधि 628.7  
 पोटना  
 सिकोडना 980.18  
 पोटररी  
 गठरी 674.2  
 पोतलक  
 बड़ी गठरी 674.5  
 पोतला  
 बड़ी गठरी 674.5  
 पोतली  
 गठरी 674.2  
 छोटी गठरी 674.4  
 झोली 673.17  
 यात्रा आहार 199.6  
 पोटा  
 उदर 148.6  
 पलक 141.13  
 हिजडन 238.6  
 पोटा [पोटी]  
 पशु शिशु 230.11  
 पोटाश  
 रासायनिक उर्वरक सूची 552.13  
 पोटाशियम  
 रासायनिक उर्वरक सूची 552.13  
 पोटी  
 गुदा 152.7  
 फुफ्फुस 146.2  
 पोका [पोकी]  
 बलिष्ठ 160.10  
 पोत  
 कपडा बुनावट 576.11  
 नीर्व 607.12  
 परिपाटी 514.9  
 पल्लवांकुर 113.3  
 पाल नौका 1072.9  
 पीद 113.5  
 लगान 647.25  
 वस्त्र 579.1  
 समुद्र पोत 1072.40  
 पोतक [पोतकी]  
 पशु शिशु 230.11  
 पोत घाट  
 नौका घाट 1069.12

पोत घाट अक्षक  
 घटवारिया 1080.26  
 पोतका  
 पोतका 583.14 ⇨  
 पोतवार  
 कोशाध्यक्ष 630.12  
 परीक्षक 322.15  
 पोतना  
 चुपडना 197.15  
 पोतना 291.8 ⇨  
 पोतनीस  
 पोतनीस 1080.23 ⇨  
 पोतने बाला  
 पुताई कला 291.13  
 पोत पट  
 पाल 1073.10  
 पोतपति  
 नौ सेनापति 935.3  
 पोताध्यक्ष 1080.16  
 पोत परिवहन  
 नौसेवा 1068.7  
 पोत बंधन स्थान  
 लंगरगाह 1069.11  
 पोत भंडारी  
 पोतनीस 1080.23  
 पोत भरण  
 नौकायन 1080.1  
 पोत: मालकक्ष  
 पोत मालकक्ष 1072.37 ⇨  
 पोत मुंशी  
 पोत मुंशी 1080.18 ⇨  
 पोत यान  
 पाल नौका 1072.9  
 पोत रीढ़  
 पोत रीढ़ 1073.37 ⇨  
 पोतला  
 परांठा 202.25  
 पोत वणिक्  
 समुद्री व्यापारी 657.7  
 पोतवाह  
 कर्णधार 1080.19  
 पोत समूह  
 बेडा 1072.51  
 पोता  
 पोछा 218.16  
 पोता 722.14 ⇨  
 पोताग्र  
 नौकाग्र 1073.23  
 पोताध्यक्ष  
 पोताध्यक्ष 1080.16 ⇨  
 पोता पोती  
 पोता पोती 722.13 ⇨  
 पोतारा  
 पोंछा 218.16  
 पोताश्रय  
 बंदरगाह 1069.8  
 पोती  
 पोती 722.15 ⇨

पोतीय  
 नाविकीय 1080.40  
 पोते पोती 722.13  
 पोत्या  
 बेडा 1072.51  
 पोत्र  
 लीच 1072.22  
 समुद्र पोत 1072.40  
 पोधा  
 बड़ी पुस्तक 446.5  
 पोधी  
 पुस्तक 446.1  
 बड़ी पुस्तक 446.5  
 हस्तलिखित पुस्तक 446.2  
 पोधी यूका  
 कीट सूची 122.12  
 पोदना  
 पोदना 126.51 ⇨  
 पोदना [पोदनी]  
 ठिंगना 154.18  
 पोदना 126.51  
 पोदीना  
 पुदीना 281.23  
 पोदेना [पोदेनी]  
 पोदना 126.51  
 पोदार  
 कोशाध्यक्ष 630.12  
 परीक्षक 322.15  
 पोना  
 बेलना 545.25  
 पोप  
 धर्म ग्रंथज्ञ 738.2  
 पोप 744.33 ⇨  
 पोप (अ)  
 पोप 744.33  
 पोपट  
 तोता 126.44  
 पोपला [पोपली]  
 अदंतुरित 144.17  
 टूटे दांत वाला 144.18  
 पोपली  
 पीपनी 480.12  
 पोप लीला  
 धर्म पाखंड 825.3  
 पोपयाब  
 कैथलिक मत 736.20  
 पोप विरोध  
 प्रोटेस्टेंट मत 736.22  
 पोमेड  
 पोमेड 274.5 ⇨  
 पोमेड (अ)  
 पोमेड 274.5  
 पोया  
 नव पल्लव 115.2  
 पोया [पोई]  
 सौप शिशु 230.7

पोर  
 अवयव संधि 139.10  
 पोरवा  
 अवयव संधि 139.10  
 उँगली: पोरवा 150.21  
 पोरा  
 कुंदा 597.3  
 पोर्क (अ)  
 शूकर मांस 206.23  
 पोर्ष (अ)  
 कार पोर्ष 1069.27  
 द्वार मंडप 608.12  
 पोर्ट (अ)  
 बंदरगाह 1089.8  
 पोर्टफोलियो (अ)  
 अलबम 669.7  
 पोर्ट ब्लेयर  
 अडमान निकोबार राजधानी 28.8  
 पोर्टर (अ)  
 कुली 1061.4  
 भार वाहक 1061.22  
 पोर्टहोल  
 पोर्टहोल 608.19 ⇨  
 पोर्टहोल (अ)  
 पोर्टहोल 608.19  
 पोर्टिको (अ)  
 कार पोर्ष 1069.27  
 द्वार मंडप 608.12  
 पोर्ट्रेट  
 पोर्ट्रेट 404.2 ⇨  
 पोर्ट्रेट (अ)  
 पोर्ट्रेट 404.2  
 पोर्ट्रेट कर्मी  
 पोर्ट्रेट कर्मी 404.30 ⇨  
 पोर्ट्रेटकार  
 पोर्ट्रेट कर्मी 404.30  
 पोर्सलिन (अ)  
 चीनी मिट्टी बरतन 680.9  
 पोस  
 आतरिक स्थान 33.5  
 गोशाला 603.24  
 पाखंड 825.2  
 पोस 271.17 ⇨  
 पोला 675.8  
 फाटक 608.9  
 महल्ला 619.6  
 पोस (अ)  
 गहराई माप 958.17  
 बल्ली 597.6  
 पोस खुलना  
 पाखंड अनावृत होना 822.19  
 पोस बाल्ट (अ)  
 बाँस छलंग 1086.11  
 पोला  
 पोला 675.8 ⇨  
 पोला [पोली]  
 पिलपिला [पिलपिली] 154.32  
 पोला [पोली] 271.25 ⇨

## पोला इंटल

### पोला इंटल

पोला इंटल 114.3 ⇨

### पोलापन

पोलापन 271.18 ⇨

### पोलिद

मस्तूल 1073 11

### पोलिया

द्वार: पहरेदार 908 13

फाटक 608 9

महल्ला 619 6

### पोली

कम मुनी रोटी 202 15

### पोली अस्थि

नलाकार अस्थि 133.3

पोले से बाहर निकालना

अपिधानित करना 675 16

### पोलो

पोलो 477 7 ⇨

### पोलो (अँ)

पोलो 477 7

### पोलो ग्राउंड (अँ)

चीगान मैदान 482 16

### पोल्का डॉट (अँ)

गोल बुदकी 578 9

### पोल्डी क्राम (अँ)

मुरगी खाना 555.5

### पोल्डी क्रामर (अँ)

मुरगी पालक 555 4

### पोल्डी क्रामिंग (अँ)

मुरगी पालन 555 3

### पोश

गोपयिता 824 22

वेशधारी 589 26

### पोशाक

नाट्य वेश 464 38

परिधान 583 1

विशिष्ट वेश 589 11

वेश 589 1

### पोशी

परिधानन 589 2

### पोशीदगी

गुप्तता 824 2

### पोशीदा

गुप्त 824 20

### पोषक

पोष्टिक 179 22

शक्ति वर्धक 487 23

सवर्धक 979 26

समर्थक 885 36

सहायता दाता 700 25

### पोषक [पोषिका]

पालक पोषक 720 20

### पोषक आहार

पोषक आहार 179 18 ⇨

### पोषक तत्त्व

पोषव्य 179 5

### पोषकता

पोषकता 179 2 ⇨

स्वास्थ्यप्रदता 161 4

### पोषक द्रव्य

पोषव्य 179 5

### पोषक पिता

परपोषक पिता 720 6

### पोषक माता

परपोषक माता 720 7

### पोषण

पालन पोषण 720.1

पोषण 179 1 ⇨

शक्ति वर्धन 487 3

### पोषण (द्वे.)

सवर्धन 979.7

### पोषण कर्ता

पालक पोषक 720.20

### पोषणहीनता

अपोषण 179 3

### पोषणाभाव ग्रस्त

अपोषण ग्रस्त 179.23

### पोषयिता

पालक पोषक 720 20

### पोषव्य

पोषव्य 179.5 ⇨

### पोषामिन (प्र)

विटामिन 179 16

### पोषाहार

पोषक आहार 179 18

### पोषिका

गवर्नस 720 4

### पोषित

पुष्ट 179.21

बलिष्ठ 160 10

सवर्धित 979 25

### पोषित [पोषिता]

पालित पोषित 720 19

### पोषित पुत्र

परपोषित पुत्र 720 9

### पोषित पुत्री

परपोषित पुत्री 720 10

### पोषित संतान

परपोषित सतान 720.8

### पोषिता

परपोषित पुत्री 720 10

पालक पोषक 720 20

### पोषित (प्र)

विटामिन 179 16

### पोष्य पुत्र

अभिपुत्र 720 15

दत्तक पुत्र 716 6

### पोष्य पुत्री

अभिपुत्री 720 16

### पोस

पोषण 179 1

### पोसना

पालन पोषण करना 720 17

### पोसाइडन (अँ)

पीत ग्रह 7 14

### पोस्ट (अँ)

डाक 444.23

पदवी 652 1

सेना चौकी 933.9

### पोस्ट आफिस (अँ)

डाकघर 444 28

### पोस्टग्रेजुएट (अँ)

निष्णात उपाधि 322.29

### पोस्ट बाक्स

पोस्ट बाक्स 444.16 ⇨

### पोस्ट बाक्स (अँ)

पोस्ट बाक्स 444.16

### पोस्ट बैग (अँ)

पोस्ट बाक्स 444 18

### पोस्टमार्टम (अँ)

शव परीक्षा 251.13

### पोस्ट मास्टर (अँ)

डाक बाबू 444.22

### पोस्टमैन (अँ)

डाकिया 444.21

### पोस्टर

पोस्टर 442.7 ⇨

### पोस्टर (अँ)

पोस्टर 442 7

### पोस्टर कलर (अँ)

पोस्टर रंग 290 9

### पोस्टर बोर्ड (अँ)

होर्डिंग 442 14

### पोस्टर रंग

पोस्टर रंग 290 9 ⇨

### पोस्टल बैन (अँ)

डाक डिब्बा 1076 10

### पोस्टेज स्टैप (अँ)

डाक टिकट 444 30

### पोस्त

अफ़ीम 212 2

धर्म 582 1

छिलका 116 6

त्वचा 134.1

सस्तर 990 1

### पोस्त तस्त्र

मृगछाला आदि सूची 595 5

### पोस्तदाना

खसखस 281 13

### पोस्तमाल

धर्मावृत 582 33

### पोस्ती

अफ़ीमची 212 12

### पोस्तीन

धर्म परिधान 583 8

पोस्तीन 582.22 ⇨

फ़र 582.17

### पोस्तीन कर्मी

पोस्तीन कर्मी 582.23 ⇨

### पोस्तीनबोज़

पोस्तीन कर्मी 582.23

### पोस्तीपन

स्फूर्तिहीनता 492 3

### पोहन

छेदना 271.20

सूत्रबद्ध करना 573 12

स्थित करना 1020.7

### पोहर

घरागाह 556.10

### पोहा

धिड़या 200.7

पशु 127.1

भेड़ बकरी 127.8

### पोहिया

घरवाहा [घरवाहन] 556.8

### पौछा

पौछा 218.16

### पौटिक (अँ)

पोप 744.33

### पौंड

पौंड 629.19 ⇨

पौंड 962.47 ⇨

### पौंड (अँ)

पौंड 962 47

### पौंडरीय

पीधा 111 14

वृक्ष 111.18

### पौंडर्य

पीधा 111 14

वृक्ष 111 18

### पौडी

पौंडिचेरि 28 50

### पौंडेज (अँ)

भार क्षमता सूची 966 6

### पौंडना

झूलना 1034 19

लेटना 1027 9

### पौर्पा

होन 461.92

होन ध्वनि 296 16

### पौरना

तेरना 483 25

### पौरघलीय

वेश्यागामी 807 16

### पौरघल्य

पतिव्रतहीनता 806 2

विवाह अनिच्छा 806 1

### पौरसरा

प्याऊ 207 11

### पौ

कौड़ी 479 26

पासा 479.21

प्रातःकालीन अर्धप्रकाश 287 11

### पौआ

धिड़या 200 7

### पोक्स (अँ)

घेघक 163 9

### पौज़ीटिव

पौज़ीटिव 405 11 ⇨

### पौज़ीटिव (अँ)

पौज़ीटिव 405 11

स्वीकारात्मक 337 15  
**पौजीटिव बायर (अँ)**  
 जिदा तार 102 9  
**पोट (अँ)**  
 बरतन 680 1  
**पोटरी**  
 पोटरी 680 36 ⇌  
**पोटरी (अँ)**  
 कुम्हार भट्टी 109 12  
 चीनी मिट्टी बरतन 680 9  
 पोटरी 680 36  
 मिट्टी बरतन 680 8  
**पोड़ना**  
 लेटना 1027 9  
**पोड़ी**  
 पैड़ी 613 3  
**पोड़ना**  
 सोना 266 11  
**पोड़ा [पोकी]**  
 पक्व (वनस्पति) 118 19  
**पोतिक**  
 पूयित 169 15  
**पोत्र**  
 पोता 722 14  
**पोत्र बधु**  
 नतोहू 724 25  
**पोत्री**  
 पोती 722 15  
**पोद**  
 अकुर 113 1  
 पोद 113 5 ⇌  
 सतान समष्टि 718 2  
**पोदः क्यारी**  
 पोद क्यारी 551 18 ⇌  
**पोदर**  
 पशुपथ 1063 48  
**पोद लगाना**  
 रोपित करना 548 36  
**पोदा**  
 पोधा 111 14  
**पोदागाह**  
 पोद क्यारी 551 18  
**पोदगल**  
 तत्त्वीय 78.24  
**पोदगलिक**  
 आत्मा विषयक 763 9  
**पोदगल्य**  
 आत्मा विषयक 763 9  
**पोध**  
 पोद 113 5  
 पोधा 111 14  
**पोधा**  
 पोधा 111 14 ⇌  
 वृक्ष 111 18  
**पोधे ऊपर ऊपर से कुतराई**  
 टुंगाई 181 20  
**पोनःपुनिक**  
 आवृत्तिशील 71 9

**पोनःपुन्यं**  
 पुनरावर्तिता 73 2  
**पोन**  
 पोना 949 35  
 वायु 85 1  
 सचल वायु 85 4  
**पोनघर**  
 कॉजी हाउस 603 22  
**पोनदून (अँ)**  
 सेतुबध नोका 1072 33  
**पोनदून त्रिज (अँ)**  
 तैरता पुल 1065 12  
**पोना**  
 पोना 681 12 ⇌  
 पोना 949 35 ⇌  
**पोना [पोनी]**  
 पोना 949 35  
**पोनी**  
 पोनी 681 11 ⇌  
**पो फटना**  
 प्रभात होना 47 17  
**पो फटे**  
 प्रभात में 47 21  
**पोरंदर**  
 ऐंद्र 773 53  
**पोर**  
 नगर वासी 616 24  
 नगर सभा अध्यक्ष 892 11  
 नगरीय 620 23  
**पोर कर्म**  
 पुलिस कर्म 866 2  
**पोरत्व**  
 नागरिकता 883 1  
**पोरना**  
 तैरना 483 25  
**पोर मुख्य**  
 नगर सभा अध्यक्ष 892 11  
**पोर विवाह**  
 सिविल मैरिज 799 15  
**पोरांगना**  
 नगर वासिनी 616 25  
**पोराण**  
 पुराणीय 740 61  
**पोराणिक**  
 पुराणीय 740 61  
 प्राचीन 63 6  
 सुदूर भूत कालीन 36 20  
**पोराणिक काल**  
 पुराण काल 76 7  
**पोराणिक कुत्ता सूची**  
 पोराणिक कुत्ता सूची 127.74 ⇌  
**पोराणिक गाय सूची**  
 पोराणिक गाय सूची 127.11 ⇌  
**पोराणिकता**  
 पारपरिकता 795.2  
 प्राचीनता 63.1  
**पोराणिक नदी सूची**  
 पोराणिक नदी सूची 20 23 ⇌

**पोराणिक पर्वत सूची**  
 पोराणिक पर्वत सूची 17 8 ⇌  
**पोराणिक महाद्वीप**  
 पोराणिक महाद्वीप 26.6 ⇌  
**पोराणिक महाद्वीप सूची**  
 पोराणिक महाद्वीप सूची 26 7 ⇌  
**पोराणिक शस्त्र**  
 दिव्यास्त्र 928 1  
**पोराणिक सागर**  
 सप्त सागर 24 21  
**पोरिक**  
 नगर प्रशासक 891 7  
 नगर वासी 616 24  
 पुलिस कमी 866 3  
**पोरिणी**  
 नगर वासिनी 616 25  
**पोरिया**  
 द्वार पहरेदार 908 13  
**पोरी**  
 खड़ाऊँ 588 11  
 डेवड़ी 608.11  
**पोरुष**  
 क्षमता 487.7  
 परिश्रम 493 1  
 पुसकता 238 2  
 पुरसा 958 23  
 पुरुष जननेंद्रिय 152 10  
 पुरुषीय 236 26  
 प्रताप 849 5  
 प्रयत्न 489 1  
 बलिष्ठता 160.1  
 वीरता 396.1  
 वीर्य 130 10  
 शक्ति 487 1  
**पोरुष ग्रंथि**  
 पोरुषिद 132 13  
**पोरुषहीन**  
 अपरिश्रमी 490 11  
 नपुंसक 238 18  
**पोरुषहीनता**  
 नपुंसकता 238 4  
**पोरुषिद**  
 पोरुषिद 132 13 ⇌  
**पोरुषी**  
 पुरुषीय 236 26  
**पोरुषेय**  
 पुरुषीय 236 26  
 मानव रचित 527 19  
 मानवीय 128 11  
 वीरोधित 396.7  
**पोरुषेयता**  
 परिश्रमशीलता 493 2  
**पोरुषेय धर्मग्रंथ**  
 पोरुषेय धर्मग्रंथ 738.4 ⇌  
**पोरुष्य**  
 वीरता 398 1  
 साहस 394.1

**पोरुहूत**  
 ऐंद्र 773 53  
**पोरेय**  
 नगर क्षेत्र 620 13  
 नागरतापूर्ण 733 16  
**पोरोधस**  
 ऋत्तिक 753 15  
 पुरोहित कर्म 744 10  
**पोरोहित्य**  
 पुरोहित कर्म 744 10  
**पोरिमासी**  
 पूर्णिमा 44 24  
**पोर्य**  
 पूर्वी 29 32  
**पोर्यात्य**  
 पूर्वी 29 32  
**पील**  
 डेवड़ी 608 11  
 मार्ग 1063 1  
**पीलस्ती**  
 शूर्पणखा 784 27  
**पीलस्त्य**  
 कुबेर 779 4  
 चंद्रमा 8 2  
 रावण 784 12  
 विभीषण 784 21  
**पीलिंग (अँ)**  
 मतदान 888 16  
**पीलिंग कूथ (अँ)**  
 मतदान कक्ष 888.19  
**पीलिंग स्टेशन (अँ)**  
 मतदान केंद्र 888 18  
**पीलि**  
 कम भुनी रोटी 202 15  
 चरण 150 9  
**पीलिनेशियाई जातियाँ**  
 भूरी जाति 730.11  
**पीलिपैक**  
 पीलिपैक 673.21 ⇌  
**पीलिपैक (अँ)**  
 पैक प्रकार सूची 1014 3  
 पीलिपैक 673.21  
**पीलियस्टर**  
 पीलियस्टर 569 19 ⇌  
**पीलियस्टर (अँ)**  
 पीलियस्टर 569 19  
 रासायनिक वस्त्र सूची 579.15  
**पीली**  
 पदचिह्न 867 4  
**पीलोम**  
 इंद्र 773 5  
**पीलोमी**  
 शची 774 89  
**पीवा**  
 आयतन मापी पात्र सूची 959 58  
 चौथाई साइज़ 961 5  
 पोवा 962 46 ⇌

## पौश्चर (अँ)

### पौश्चर (अँ)

मडल 464 24  
स्थानक 464 26

### पीष

पीष 43 16 ⇐  
भारतीय मास सूची 43 6

### पीष संक्रांति

लोहड़ी 57 42

### पीष्कर

कमल मूल 112 14

### पीष्टिक

पीष्टिक 179 22 ⇐  
शक्ति वर्धक 487 23

### पीष्टिक तत्त्व

विटामिन 179 16

### पीष्टिकता

पोषकता 179 2

### पीष्ण

सूर्यीय 8 9

### पीष्य

पीष 43 16

### पीसर

प्याऊ 207 11

### पीसला

प्याऊ 207 11

### पीसेरा

पीवा 962 46

### प्याऊ

प्याऊ 207.11 ⇐

### प्याज़

प्याज़ 281 24 ⇐  
साग सब्जी सूची 189 4

### प्याज़ नरगिस जैसा कंद

शल्क कंद 111 12

### प्याज़ रोटी

निर्घन आहार 197 8

### प्याज़ लहसनहीन मसाला

वैष्णव मसाला 281 5

### प्याज़ लहसुन रहित निरामिष भोजन

वैष्णव आहार 204 3

### प्याज़ी

हलका लाल 289.62

### प्यादा

दूत 443.9  
पदघर 1083 25  
पैदल सैनिक 934 7  
सदेश वाहक 443 3

### प्यादापा

पैदल 1083.28

### प्यादापाई

पद घरण 1083 1

### प्यार

प्रेम 368 1  
प्रेमपात्र 369 4  
प्रेमपात्रा 369 5  
लाड 721 3  
लाड प्यार 721 6

### प्यार आना

प्रेम होना 368.12

### प्यार का नाम

घर का नाम 315 5

### प्यार भरा

प्रेमपूर्ण 368 17

### प्यार

प्रेमपात्र 369 4

### प्यारा [प्यारी]

घनिष्ठ 704 27  
प्रिय 369 7  
लाड [लाडी] 721 15  
सुदर 157 7

### प्यारा बेटा

प्रिय पुत्र 718 7

### प्यारा समझना

स्नेह करना 368 16

### प्यारी

प्रेमपात्रा 369 5

### प्यारी पुत्री

प्रिय पुत्री 718 11

### प्याला

कटोरा 683 1  
चाय काफी बरतन सूची 680 20  
छोटा कटोरा 683 4  
प्याला 684 12 ⇐  
मिखा भाड सूची 642 12  
मद्यपान पात्र 209 38

### प्याली

कटोरी 683 6  
चाय काफी बरतन सूची 680 20  
छोटी कटोरी 683 7  
प्याली 684.13 ⇐

### प्यास

इच्छा 359.1  
जलहीनता 89 4  
तृषा 180 5  
भोग लिप्सा 363 4  
लालसा 359 5  
षडक्लेश सूची 761 19

### प्यास न बुझना

तृप्त न होना 362 4

### प्यास बुझाई

जल ग्रहण 207.9

### प्यास बुझाना

पीना 207 16  
प्यास मिटाना 180.14  
मद्यपान करना 209 40

### प्यास मिटाना

प्यास मिटाना 180.14 ⇐

### प्यास लगना

प्यासा होना 180.12

### प्यासहीन

अतृषित 180.20

### प्यासा [प्यासी]

अतृप्त 362.6  
जलहीन 89 11  
तृषित 180.19

लालसी 359 29

### प्यासापन

अतृप्ति 362 2

### प्यासा होना

प्यासा होना 180.12 ⇐

### प्यासे

अतृप्तत 362 7

### प्यु

प्यु 745.25 ⇐

### प्यु (अँ)

प्यु 745 25

### प्युमा

प्युमा 242.4 ⇐

### प्युपा (अँ)

प्युपा 242 4

### प्यो

पिता 717.4

### प्रकंप

भय कंपन 395 2

### प्रकंपन

आँधी 85 5

स्पंदन 1039 2

### प्रकंपित

कंपित 1039 20  
तरंगित 1040 30

### प्रकंपी

दोलायमान 1037 23

### प्रकट

अनावृत 822 29  
अभिव्यक्त 428 17  
उदित 5.28  
कथित 430.16  
प्रकट 822.27 ⇐

समक्ष 1021 8

सर्व सज्ञात 441 21

सहसा आगत 1093 15

साकार 967 12

स्पष्टार्थी 426 33

### प्रकट (दे.)

स्पष्ट 822 20

### प्रकट (रहस्य)

उद्घाटित (रहस्य) 822.25

### प्रकट करना

अभिव्यक्ति करना 428 9  
रहस्य खोलना 822.16

### प्रकट कर्ता

अभिव्यक्ति कर्ता 428.18  
रहस्योद्घाटक 822 26

### प्रकटतः

अगुप्तत 822 34

प्रकटत 822.33 ⇐

समक्षतः 1021.11

### प्रकटता

अगुप्तता 822 9

प्रकटता 822.8 ⇐

### प्रकटन

अभिव्यक्ति 428.1  
उदय 5.7

प्रकटन 822.7 ⇐

रहस्योद्घाटन 822.6

सहसा आगमन 1093.3

### प्रकट न करना

रहस्य न खोलना 823 10

### प्रकटना

प्रकट होना 822.17

प्रत्यक्ष होना 284.33

### प्रकट होना

उदित होना 5.26

दर्शन देना 749.49

प्रकट होना 822.17 ⇐

### प्रकटित

अभिव्यक्त 428 17

उद्घाटित 693 11

उद्घाटित (रहस्य) 822 25

प्रकट 822.27

### प्रकटीकरण

रहस्योद्घाटन 822.6

### प्रकटीभवन

प्रकटन 822 7

### प्रकरण

अध्याय 447 2

प्रकरण 424.7 ⇐

संदर्भ 437.3

### प्रकरण अर्थ

प्रकरण अर्थ 426.12 ⇐

### प्रकरणगत

संगत 438 6

### प्रकरणतः

सदमंतः 437.18

### प्रकर्ष

उन्नति 534 1

क्लाईमैक्स 463.29

### प्रकर्षक

आकर्षक 1050.29

### प्रकर्षित

कथित 1051 36

### प्रकल्प

परिकल्प 520 6

### प्रकल्पक

प्रकल्पक 527.21 ⇐

### प्रकल्पन

प्रसंस्करण 527.7

रचना कर्म 527.1

### प्रकल्पना

आविष्कार 307 5

परिकल्पना 520.5

प्रसंस्कार 527 6

विद्यार 330 1

### प्रकल्पित

प्रसंस्कृत 527.20

रथित 527 12

### प्रकल्पित करना

प्रसंस्करण करना 527.10

### प्रकशन

प्रकटन 822.7

<b>प्रकल्पना</b>	<b>प्रकाशन उद्योग</b>	<b>प्रकाशाहीन</b>	<b>प्रकृति चित्र</b>
प्रत्यक्ष होना 284.33	प्रकाशन व्यवसाय 420.1	अधकारपूर्ण 286 14	प्रकृति चित्र 404 4 ⇨
<b>प्रकांड</b>	<b>प्रकाशन कर्ता</b>	<b>प्रकाशाहीनता</b>	<b>प्रकृति: तीन गुण</b>
उत्तम 313 13	प्रकाशन कर्ता 420.3 ⇨	अधकार 286 1	प्रकृति तीन गुण 762.3 ⇨
तना 114.7	<b>प्रकाशन कर्म</b>	<b>प्रकाश होना</b>	<b>प्रकृति पुरुष</b>
बाहु 149 6	प्रकाशन कर्म 420.4 ⇨	आलोक होना 285 37	राजा मंत्री 889 20
बृहत 979 15	<b>प्रकाशन गृह</b>	<b>प्रकाशात्मा</b>	<b>प्रकृति: मूल तत्त्व</b>
महान 839 8	प्रकाशनालय 420 2	विष्णु 768 1	हिरण्य गर्भ 764 32
वृक्ष 111 18	<b>प्रकाशन व्यवसाय</b>	सूर्य 8 1	<b>प्रकृतिस्थता</b>
शाखा 114 10	प्रकाशन व्यवसाय 420 1 ⇨	<b>प्रकाशित</b>	स्थिरधितता 355 2
<b>प्रकाम</b>	<b>प्रकाशनालय</b>	अभिव्यक्त 428 17	<b>प्रकृत्या</b>
इच्छुक 359 21	प्रकाशनालय 420 2 ⇨	आलोकित 285 45	स्वभावतः 836 15
पर्याप्त 941 6	<b>प्रकाश पति</b>	उद्घाटित 693 11	<b>प्रकृष्ट</b>
<b>प्रकार</b>	अहुरमज्द 764 13	उद्घाटित (रहस्य) 822 25	उत्तम 313 13
कला शैली 397 14	<b>प्रकाश परावर्तक</b>	कथित 430 16	प्रधान 852 10
कार्य विधि 514 1	प्रकाश परावर्तक 288 13 ⇨	दीप्त 287 34	<b>प्रकृष्टता</b>
कोटि 936 1	<b>प्रकाश परावर्तन</b>	प्रकाशित 420.9 ⇨	उत्तमतमता 313 3
<b>प्रकार का</b>	प्रकाश परावर्तन 288.6 ⇨	सुदृश्य 282 22	<b>प्रकोप</b>
कोटीय 936 7	<b>प्रकाश पर्वत (शब्दार्थ)</b>	<b>प्रकाशित करना</b>	अति क्रोध 373 2
<b>प्रकारीय</b>	कोहनूर 96 29	आलोकित करना 285 39	अपवृद्धि 919 5
कोटीय 936 7	<b>प्रकाश पिंड</b>	प्रकाशित करना 420 8 ⇨	आक्रमण 914 3
<b>प्रकाश</b>	तारा 3 2	<b>प्रकाशितता</b>	ईश्वरीय सकट 909 4
ज्ञान 305 1	<b>प्रकाश भ्रम</b>	सुदृश्यता 282 12	उत्तेजना 371 4
ज्ञान प्रकाश 305 3	मृग दर्शन 342 6	स्पष्टता 822 1	क्रोध 373 1
प्रकाश 287 1 ⇨	<b>प्रकाश मंडल</b>	<b>प्रकाशित होना</b>	रोग विस्तार 163 12
विकास 534 4	तेजोमंडल 839 7	आलोकित होना 285 38	सकट 909 1
<b>प्रकाश उपकरण</b>	<b>प्रकाश मंडल</b>	<b>प्रकाश्य</b>	<b>प्रकोष्ठ</b>
प्रकाश उपकरण 285 6 ⇨	प्रकाश मंडल 287 3 ⇨	कथनीय 430 17	अग्रहस्त 149 8
<b>प्रकाश: कंपन</b>	<b>प्रकाश मणि</b>	<b>प्रकिण्व</b>	आवास चौक 619 4
टिमटिमाहट 287 25	प्रिज्म 289 6	किण्वक 195 11	द्वारस्थ कक्ष 614 10
<b>प्रकाशक</b>	<b>प्रकाशमान</b>	<b>प्रकिण्वन</b>	पहुँचा 149 9
अभिव्यक्ति कर्ता 428 18	तेजोमंडित 839 11	किण्वन 195 10	बड़ा कमरा 614 2
आलोकक 285 46	दीप्त 287 34	<b>प्रकीर्ण</b>	<b>प्रकोष्ठक</b>
प्रकाशन कर्ता 420 3	<b>प्रकाश मान</b>	विकीर्ण 288 11	द्वारस्थ कक्ष 614 10
प्रकाशनालय 420 2	प्रकाश माप 958 48	<b>प्रकीर्णित</b>	<b>प्रक्रम पुस्तक</b>
रहस्योद्घाटक 822 26	<b>प्रकाश: माप</b>	प्रशांसित 841 29	प्रक्रिया पुस्तक 446 22
<b>प्रकाश करना</b>	<b>प्रकाश मापिकी</b>	<b>प्रकृत</b>	<b>प्रक्रिया</b>
आलोकित करना 285 39	प्रकाश मापिकी 285.32 ⇨	उपमेय 309 9	कार्य विधि 514 1
<b>प्रकाश किरण</b>	<b>प्रकाश मापी</b>	प्राकृतिक 762 10	प्रक्रिया 514 5 ⇨
प्रकाश किरण 288 1 ⇨	प्रकाश मापी 958 52 ⇨	मानव अरक्षित 528 9	<b>प्रक्रिया निर्देश</b>
<b>प्रकाश गति</b>	<b>प्रकाश मुकुट</b>	वास्तविक 820 23	विधि निर्देश 514 2
प्रकाश गति 1042 8 ⇨	प्रकाश मंडल 287 3	स्याभाधिक 836 11	<b>प्रक्रिया पुस्तक</b>
<b>प्रकाश गति: मान</b>	<b>प्रकाश यक्रावर्तक</b>	<b>प्रकृत ज्ञान</b>	प्रक्रिया पुस्तक 446 22 ⇨
प्रकाश वर्ष 959 31	प्रकाश यक्रावर्तक 288 15 ⇨	यथार्थ ज्ञान 761 8	<b>प्रक्रियायली</b>
<b>प्रकाश गृह</b>	<b>प्रकाश यक्रावर्तन</b>	<b>प्रकृति</b>	प्रक्रिया पुस्तक 446 22
प्रकाश स्तंभ 285 31	प्रकाश यक्रावर्तन 288 7 ⇨	अरूपतरित शब्द 423 11	<b>प्रक्षाल</b>
<b>प्रकाश तरंग</b>	<b>प्रकाश वर्ष</b>	गुणनाक 955 3	पाप प्रायश्चित्त 813 4
प्रकाश तरंग 1040 5 ⇨	प्रकाश वर्ष 959.31 ⇨	चेतन जगत 121 1.	<b>प्रक्षालक</b>
<b>प्रकाशद</b>	<b>प्रकाश वर्ष: 3.26</b>	जड़ जगत 78.3	धोबी 220 6
आलोकक 285 46	पारसेक 959 30	प्रकृति 762.1 ⇨	प्रक्षालक 220 41 ⇨
<b>प्रकाशन</b>	<b>प्रकाश बेग</b>	मूल प्रकृति 762 2	विशोधन कर्ता 219 10
अभिव्यक्ति 428 1	प्रकाश गति 1042 8	स्वभाय 836 4	<b>प्रक्षालक द्रव्य</b>
आलोकन 285 2	<b>प्रकाश संकेत</b>	<b>प्रकृति (दे.)</b>	प्रक्षालक 220 21
प्रकाशन कर्म 420 4	प्रकाश संकेत 285.30 ⇨	माया 762 9	<b>प्रक्षालन</b>
प्रकाशन व्यवसाय 420.1	<b>प्रकाश स्तंभ</b>	<b>प्रकृति का विधान</b>	प्रक्षालन 220 1 ⇨
रहस्योद्घाटन 822.6	प्रकाश स्तंभ 285.31 ⇨	प्रारब्ध 260.1	वस्त्र प्रक्षालन 220 4
संज्ञापन 441.7	<b>प्रकाश हरण</b>	<b>प्रकृति चिकित्सा</b>	<b>प्रक्षालन करना</b>
	आलोक हरण 286 9	प्राकृतिक चिकित्सा 172 14	धोना 220 32

## प्रक्षालन कर्मी

प्रक्षालन कर्मी  
धोबी 220 6  
प्रक्षालन यंत्र  
प्रक्षालन यंत्र 220 9 ⇨  
प्रक्षालन वस्त्र  
प्रक्षाल्य वस्त्र 220 5  
प्रक्षालनालय  
धुलाईघर 220 8  
प्रक्षालनी  
वाश बेसिन 221 20  
प्रक्षालयिता  
प्रक्षालक 220 41  
प्रक्षालय्य  
प्रक्षाल्य 220 21 ⇨  
प्रक्षालित  
प्रक्षालित 220 40 ⇨  
प्रक्षालित करना  
धोना 220 32  
प्रक्षालित जल  
प्रक्षालित जल 220 3 ⇨  
प्रक्षालित्र (प्र)  
प्रक्षालन यंत्र 220 9  
प्रक्षाल्य वस्त्र  
प्रक्षाल्य वस्त्र 220 5 ⇨  
प्रक्षितारा  
प्रक्षिप्त पाठ 412 35  
प्रक्षिप्त  
अतक्षिप्त 1002 26  
प्रक्षेपित 1052 19  
प्रक्षिप्त करना  
अतक्षिप्त करना 1002 18  
प्रक्षिप्त पाठ  
प्रक्षिप्त पाठ 412 35 ⇨  
प्रक्षिप्त होना  
प्रक्षिप्त होना 1052 13 ⇨  
प्रक्षेप  
क्षेपणशी हस्तलेख शैली सूची 412 9  
प्रक्षेप 1052 1 ⇨  
प्रक्षेपक  
प्रक्षिप्त पाठ 412 35  
प्रक्षेपण  
अतक्षेपण 1002 6  
उच्छालन 1030 10  
प्रक्षेपण 1052 2 ⇨  
प्रक्षेपण करना  
प्रक्षेपण करना 1052 14 ⇨  
प्रक्षेपयिता  
प्रक्षेपयिता 1052 20 ⇨  
प्रक्षेप यंत्र  
अतक्षेप मार्ग 1066 3  
प्रक्षेप शूलास्त्र  
शूलास्त्र 925 1  
प्रक्षेप स्थल  
लॉचिंग बेस 1069 23  
प्रक्षेपास्त्र  
दूरगामी राकेट 1075 2  
प्रक्षेपास्त्र 927 18 ⇨  
शस्त्र 922 2

प्रक्षेपित  
प्रक्षेपित 1052 19 ⇨  
संचालित (शस्त्र) 930 18  
प्रक्षेपित्र (प्र)  
प्रोजेक्टर 470 8  
प्रक्षेपता  
प्रक्षेपयिता 1052 20  
प्रखार  
चुभनशील 270 18  
तीक्ष्ण 270 19  
तेजस्वी 839 9  
प्रबल 487 24  
बहुत चरपर [बहुत चरपरी] 278 13  
प्रखारता  
तीक्ष्णता 270 6  
तेजस्विता 839 5  
प्रबलता 487 6  
प्रख्यात  
ख्यात 847 3  
प्रख्यात कथा  
इतिहास कथा 450 15  
प्रख्यात कथावस्तु  
कथावस्तु प्रकार सूची 466 7  
प्रख्यापन  
संज्ञापन 441 7  
प्रगड  
बॉह अस्थि 133 17  
बाहु 149 6  
प्रगडिका  
बॉह अस्थि 133 17  
प्रगटना  
उदित होना 5 26  
दर्शन देना 749 49  
प्रत्यक्ष होना 284 33  
प्रगत  
उन्नत 534 10  
पुरोगत 1096 8  
प्रगत 1095 13 ⇨  
प्रगति  
उन्नति 534 1  
प्रगति 1095 1 ⇨  
प्रगति करना  
प्रगति करना 1095 7 ⇨  
प्रगति कर्ता  
प्रगति कर्ता 1095 14 ⇨  
प्रगतिवाद  
प्रगतिवाद 884 16 ⇨  
प्रगतिवादी  
अग्रगामी 344 7  
प्रगतिशील  
उन्नतिशील 534 11  
प्रगति कर्ता 1095 14  
प्रगतिशीलता  
प्रगतिवाद 884 16  
प्रगतिहीन  
गतिरुद्ध 1047 23  
प्रगतिहीन गति  
गति प्रतिगति 1035 1

प्रगतिहीनता  
गति रुद्धता 1047 3  
गतिकोष 1047 2  
प्रगमन  
प्रगति 1095 1  
प्रगल्भ  
अभिमानी 858 10  
तत्काली 301 23  
प्रगल्भ [प्रगल्भा]  
दीठ 860 26  
प्रौढ़धी 301 25  
लज्जाहीन 846 8  
प्रगल्भता  
दिठाई 860 9  
तत्काल बुद्धि 301 2  
प्रवीणता 303 8  
लज्जाहीनता 846 1  
प्रगल्भा  
दुर्गा 776 7  
प्रगल्भा नायिका 456 10  
प्रगल्भा नायिका  
प्रगल्भा नायिका 156 10 ⇨  
प्रगसना  
दर्शन देना 749 49  
प्रगाढ़  
अगम्य 519 25  
अत्यधिक 944 7  
गहन 1004 16  
घनिष्ठ 704 27  
डूबा [डूबी] 1031 31  
दुर्बोध्य 519 23  
प्रगाढ़ 81 14 ⇨  
प्रगाढ़ धितन  
ध्यानन 331 2  
प्रगाढ़ता  
घनिष्ठता 704 13  
प्रगाढ़ता 81 1 ⇨  
प्रगाढ़ संबंध  
घनिष्ठ संबंध 715 4  
प्रगाढ़ होना  
प्रगाढ़ होना 81 8 ⇨  
प्रगात्ता  
गायक 460 17  
प्रगाभी  
प्रगति कर्ता 1095 14  
प्रगायक  
प्रथम गायक 460 32  
प्रगायी  
प्रथम गायक 460 32  
प्रगीत  
गायित 460 46  
गीत 451 1  
प्रगुणन  
क्रमबद्धन 991 16  
व्यवस्थापना 893 7  
प्रग्रह  
तुला दड रस्सी 570 12  
भुजा 149 5

शासन सूत्र 890 4  
प्रग्रहण  
जीव प्रशिक्षण 555 9  
प्रग्रह  
तुला दड रस्सी 570 12  
प्रघोष  
घोर ध्वनि 294 6  
प्रघंड  
अति आविष्ट 371 9  
अति क्रुद्ध 373 30  
अत्यधिक 944 7  
अदम्य 519 28  
असह्य 873 14  
कोधी 373 29  
तप्त 104 22  
दुतागामी [दुतागामिनी] 1044 7  
प्रबल 487 24  
बहुत चरपर [बहुत चरपरी] 278 13  
भयानक 395 25  
विकराल 154 23  
प्रघंडता  
अदम्यता 519 12  
प्रबलता 487 6  
मारकता 251 2  
प्रघंडा  
दुर्गा 776 7  
नायिका सूची 774 46  
प्रघंडिका  
छिन्नमस्ता 776 6  
प्रघक  
गतिपाल चक्र 1077 40  
सेना व्यूह 90/8  
प्रघय  
पुष्प चयन 12 31  
विविध संग्रह 669 3  
संघय 645 3  
प्रघरण  
प्रवर्तन 693 3  
विघरण 1085 1  
प्रघरित  
प्रघरित 442 18  
प्रघल  
संघल 1037 19  
प्रघलन  
प्रघलन 514 7 ⇨  
प्रघलन न होना  
प्रघलन न होना 515 6 ⇨  
प्रघलन होना  
प्रघलन होना 514 11 ⇨  
प्रघलाक  
मोर फूँछ 151 13  
प्रघलित  
गतिशील 1042 11  
चलता [चलती] 1046 25  
पारपरिक 795 13  
प्रघलित 514 16 ⇨  
कैशानानुकूल 222 18  
संचलित 1037 20



सामान्य 311 3  
**प्रचलित (बोली)**  
 प्रचलित (बोली) 421.32 ⇨  
**प्रचलित कथा**  
 लोक कथा 450 7  
**प्रचलित करना**  
 प्रवर्तित करना 693 7  
**प्रचलित कर्ता**  
 प्रवर्तक 693 14  
**प्रचलितता**  
 सामान्यता 311 1  
**प्रचलित नाम**  
 ट्रेडनेम 621 16  
**प्रचलित बोली**  
 प्रचलित बोली 421.3 ⇨  
**प्रचलित मूल्य**  
 प्रचलित मूल्य 664.3 ⇨  
**प्रचलित व्यवहार**  
 कालानुसार आचरण 808 2  
**प्रचलित होना**  
 प्रचलन होना 514 11  
**प्रचारक**  
 संराशक 667.17  
**प्रचार**  
 खेल मैदान 482 10  
 ख्याति 847 1  
 प्रचलन 514 7  
 प्रचार 442 1 ⇨  
**प्रचारक**  
 धर्म प्रचारक 742 28  
 प्रचारक 442 19 ⇨  
 प्रचार कर्मी 442 2  
 प्रसारक 979 19  
 संप्रेषक 428 20  
**प्रचार करना**  
 प्रचार करना 442.17 ⇨  
**प्रचार कर्मी**  
 प्रचार कर्मी 442 2 ⇨  
**प्रचारना**  
 प्रचार करना 442 17  
**प्रचार पट**  
 प्रचार पट 442 13 ⇨  
**प्रचार पत्र**  
 प्रचार पत्र 442 6 ⇨  
**प्रचार फ़िल्म**  
 विज्ञापन फ़िल्म 472 9  
**प्रचारित**  
 प्रचारित 442.18 ⇨  
 प्रसारित 979.17  
**प्रचारित करना**  
 प्रचार करना 442 17  
**प्रचालक**  
 अवतारण कर्ता 1080 41  
 प्रवर्तक 693 14  
**प्रचालन**  
 आरंभण 994 4  
 चालन 1046.2  
 प्रणोदन 1051.1

प्रवर्तन 693 3  
 यान अवतारण 1080 8  
 यान चालन 1079 2  
**प्रचालित**  
 धालित 1046 23  
 प्रणोदित 1051 32  
 प्रवर्तित 693 13  
**प्रचालित करना**  
 प्रवर्तित करना 693 7  
**प्रचुर**  
 अत्यधिक 944 7  
**प्रचुरतः**  
 अत्यधिकत 944 12  
**प्रचुरता**  
 अत्यधिकता 944 2  
 विशाल मात्रा 946 8  
 समृद्धि 626 1  
**प्रचुरता से**  
 अत्यधिकत 944 12  
**प्रथेता**  
 ऋषि मुनि सूची 789 17  
 चयन कर्ता 1009 19  
 दक्ष 787 2  
 प्रतिभाशाली 301 27  
 बुद्धिमान 301 21  
 ब्रह्मा पुत्र सूची 766 10  
 संराशक 667 17  
 सारथी 1079 10  
**प्रथेति**  
 विचारित 330 19  
**प्रथोदक**  
 हॉकने वाला 1079.27  
**प्रथोदन**  
 उत्प्रेरण 499 2  
 ऊर्जायन 101 6  
 प्रणोदन 1051 1  
 हँकाई 1079 11  
**प्रथोदना**  
 प्रेरणा 499 1  
**प्रथोदित**  
 उत्प्रेरित 499 8  
 ऊर्जायित 101 14  
 गत्चरित 1046 21  
 हँका [हँकी] 1079 24  
**प्रच्छद**  
 आच्छाद 593 1  
 विच्छिना 593 47  
**प्रच्छद पट**  
 बुरका 591 4  
**प्रच्छन्न**  
 आच्छादित 592.13  
 प्रच्छन्न 824.26 ⇨  
 विलुप्त 824 24  
**प्रच्छन्न ऊर्जा**  
 स्थितिज ऊर्जा 101.3  
**प्रच्छन्नन**  
 प्रच्छन्नन 824.8 ⇨

**प्रच्छन्न होना**  
 प्रच्छन्न होना 824.18 ⇨  
**प्रच्छादन**  
 आच्छादन 592 1  
 गोपन 824 1  
**प्रच्छादित**  
 आच्छादित 592 13  
**प्रध्यायक**  
 प्रशामक 372 11  
**प्रध्युत**  
 ख्यित 1032 26  
**प्रध्युति**  
 धैर्य मंग 395 11  
**प्रजघ**  
 राक्षस सूची 784 4  
**प्रजन**  
 जनन 243 1  
**प्रजनन**  
 प्रजनन 243 2 ⇨  
**प्रजनन करना**  
 प्रजनन करना 243 9 ⇨  
**प्रजनन द्वारा विकसित**  
 प्रजनित 243 16  
**प्रजननशीलता**  
 जनन क्षमता 238 1  
**प्रजनयिता**  
 जनयिता 243 10  
**प्रजनयित्री**  
 जनयित्री 243 11  
**प्रजनित**  
 प्रजनित 243 16 ⇨  
**प्रजनित अंडा**  
 सामिष अंडा 206 4  
**प्रजनिद**  
 जनिद 132 11  
**प्रजनिष्णु**  
 जननक्षम 238.12  
**प्रजयिता**  
 पिता 717 4  
**प्रजल्प**  
 गप 440 7  
 रपशप 435 6  
 प्रलाप 428.6  
**प्रजय**  
 एक घाव 484.2  
 गति 1042.1  
 द्रुत गति 1044 2  
 शीघ्रकारी 496.9  
**प्रजवन**  
 दीर्घाकी 484 1  
 द्रुत गमन 1044 3  
**प्रजवित**  
 प्रणोदित 1051.32  
 वेग वर्धित 1043 17  
**प्रजविष्णु**  
 द्रुतगामी [द्रुतगामिनी] 1044 7  
**प्रजवी**  
 द्रुतगामी [द्रुतगामिनी] 1044 7

**प्रजातक**  
 यमराज 256 1  
**प्रजा**  
 जनता 883 5  
 जीव 121 4  
 जीव जगत 121 3  
 प्रजनन 243 2  
 प्रजा 883.6 ⇨  
 सतान समष्टि 718.2  
**प्रजाकाम**  
 सतानेच्छुक 239 13  
**प्रजा कामना**  
 सतानेच्छा 239.2  
**प्रजागार**  
 जागरुकता 301 15  
 जाग्रत अवस्था 265 1  
 विष्णु 768 1  
**प्रजागरण**  
 जागरण 265 2  
**प्रजासंतु**  
 वंश 727 1  
**प्रजासंत्र**  
 प्रजासंत्र 881 18 ⇨  
**प्रजासंत्र वाद**  
 प्रजासंत्र वाद 884 9 ⇨  
**प्रजासंत्रवाद**  
 प्रजासंत्र वाद 884 9  
**प्रजासंत्रात्मक**  
 प्रजासंत्रात्मक 881.38 ⇨  
**प्रजासंत्रीय**  
 गणसंत्रात्मक 881 37  
 प्रजासंत्रात्मक 881.38  
**प्रजात**  
 जन्म [जन्मी] 248 10  
**प्रजाति**  
 नस्ल 243 3  
 नृवश 730 15  
 सतान समष्टि 718.2  
**प्रजाति कर्म**  
 जनन 243 1  
**प्रजातिवाद**  
 प्रजातिवाद 884.33 ⇨  
**प्रजातीय**  
 नस्ली 243.17  
**प्रजाव**  
 संतानप्रद 239 14  
**प्रजाधर**  
 विष्णु 768 1  
**प्रजाध्यक्ष**  
 दक्ष 787 2  
 सूर्य 8 1  
**प्रजानाथ**  
 दक्ष 787 2  
 मनु 788 1  
**प्रजापत**  
 हार सिंगार 13 27  
**प्रजापति**  
 अब्राहम 791.4

## प्रजापति: जनक

आदम 791 6  
 इंद्र 773 5  
 ईश्वर 764 1  
 दक्ष 787 2  
 दामाद 724.22  
 पिता 717.4  
 पितृसत्ता प्रमुख 688 4  
 प्रजापति 787 1 ⇨  
 प्रथम पुरुष 236 13  
 ब्रह्मा 766.1  
 राजा 882.6  
 वंश प्रवर्तक 727 7  
 विश्वकर्मा 773.44  
 विष्णु 768 1  
 वैवस्वत मनु 788.5  
 सूर्य 8 1  
 प्रजापति: जनक  
 मनु 788 1  
 प्रजापति विषयक  
 प्रजापतीय 787.29  
 प्रजापतीय  
 प्रजापतीय 787.29 ⇨  
 प्रजापत्य  
 राजा पद 882 8  
 प्रजा पिता  
 पितृसत्ता प्रमुख 688 4  
 प्रजावती  
 गर्भवती 241 14  
 भाभी 724.26  
 संतानवती 239 10  
 प्रजा वृद्धि  
 वंश वृद्धि 727.8  
 प्रजा सत्ता  
 प्रजातंत्र 881.18  
 प्रजाहित  
 जल 88 1  
 प्रजा हित  
 लोकोपकार 832.5  
 प्रजाहीन  
 वंध्य 238 15  
 प्रजाहीना  
 वंध्य 238 16  
 प्रजुरित  
 अग्न्याधानित 107 13  
 प्रजेश  
 प्रजापति 787 1  
 राजा 882.6  
 विश्वकर्मा 773 44  
 प्रजेश्वर  
 अग्नि 106.1  
 प्रजापति 787.1  
 ब्रह्मा 766.1  
 राजा 882.6  
 विश्वकर्मा 773.44  
 विष्णु 768 1  
 प्रजैदेशान (ओं)  
 परिकल्प प्रदर्शन 520.7

प्रज्ञा  
 ज्ञानी 305.30  
 बुद्धिमान 301 21  
 प्रज्ञा  
 प्रज्ञा 774.53 ⇨  
 बुद्धि 301 1  
 मन 351 2  
 विवेक 301 7  
 सरस्वती 775 8  
 प्रज्ञाकूट  
 बोधिसत्त्व सूची 793 16  
 प्रज्ञाचक्षु  
 अंधा [अंधी] 164 8  
 धृतराष्ट्र 771.65  
 प्रज्ञात  
 परिज्ञात 305.32  
 स्पष्ट 822 20  
 प्रज्ञात्मा  
 महाज्ञानी 305 31  
 प्रज्ञापन  
 सज्ञापन 441.7  
 प्रज्ञा परिसर  
 दृष्टि क्षेत्र 282 8  
 प्रज्ञावान [प्रज्ञावती]  
 दूरदर्शी 301 35  
 बुद्धिमान 301 21  
 प्रज्ञाहीन  
 अदूरदर्शी 302 13  
 मूर्ख 302 7  
 प्रज्ञेय  
 ज्ञेय 305 38  
 बोध्य 518.17  
 प्रज्यल  
 अग्न्याधानित 107.13  
 उदील (अग्नि) 107 14  
 प्रज्वलन  
 अग्न्याधान 107 1  
 दहन 108.1  
 प्रज्वलित  
 अग्न्याधानित 107 13  
 आलोकित 285.45  
 प्रज्वलित करना  
 आग जलाना 107.10  
 प्रज्वलित (प्र)  
 लाइटर 107.9  
 प्रण  
 आन 349.3  
 प्रतिज्ञा 339.17  
 सकल्प 500.1  
 प्रण कर्ता  
 कृतप्रतिज्ञ 339.44  
 प्रणतता  
 अयनमितता 1025.4  
 प्रणतपाल  
 शरण दाता 910 13  
 प्रणति  
 अयनमन 1025.3  
 कोण 970 1

प्रणाम 1060.13  
 प्रणमन  
 अवनमन 1025.3  
 प्रणय  
 आस्था भाव 752 13  
 दया 834.1  
 प्रेम 368.1  
 शृंगारी नायक 456 1  
 प्रणय कथा  
 प्रेम कथा 450.4  
 प्रणय कलह  
 प्रणय कलह 374 3 ⇨  
 प्रणय कोप  
 मान कलह 374 4  
 प्रणयन  
 आनयन 1053 1  
 कला कर्म 397 15  
 नेतृत्व 346 1  
 पहुँचाई 1053 5  
 प्रवर्तन 693 3  
 साहित्य लेखन 448 1  
 प्रणय भंग  
 मित्रता विस्थापना 705.16  
 प्रणयिनी  
 प्रेमिका 368 3  
 प्रणयी  
 पति 803 5  
 पुरुष मित्र 705.2  
 प्रेमी 368 2  
 भक्त 752 2  
 विवाह आकांक्षी 799 61  
 प्रणय.  
 ईश्वर 764 1  
 ओम् 741 19  
 विष्णु 768.1  
 शिव 767 1  
 प्रणाद  
 गरुड़गङ्गाहट 297.10  
 प्रण्वलित  
 घोर ध्वनि 294.6  
 योग ध्वनि 756 16  
 प्रणादन  
 ध्वनन 294.2  
 प्रणादित  
 ध्वनित 294 21  
 प्रतिध्वनित 294.23  
 वादित 461 105  
 प्रणादी  
 ध्वनिकारी 294.22  
 प्रणाम  
 अभिवादन 1060 1  
 प्रणाम 1060.13 ⇨  
 प्रणामित  
 अभिवादित 1060.27  
 प्रणायक  
 नेता 346.2  
 मार्ग प्रदर्शक 1098.4  
 सेनापति 935.1

प्रणाल  
 नाला 23 8  
 प्रणालिका  
 जलग्रीवा 24 10  
 प्रणाली  
 कार्य विधि 514.1  
 चौकी जलग्रीवा 24.11  
 जलधारा 21 15  
 परंपरा 795 1  
 परनाला 23.9  
 परिपाटी 514.9  
 प्रक्रिया 514.5  
 प्रणालीगत  
 परिपाटी अनुकुल 514.18  
 प्रणिधान  
 आधार ग्रहण 1019.6  
 आधारण 1019 5  
 कर्मफल त्याग 504 13  
 गुप्तचर नियुक्ति 866.11  
 ध्यान 331 1  
 समाधि 755.3  
 प्रणिधानन  
 ध्यानन 331 2  
 प्रणिधायी  
 गुप्तचर नियोजक 866 13  
 प्रणिधि  
 गुप्तचर 866.12  
 गुप्तचर नियुक्ति 866 11  
 प्रणी  
 अविचल 500 15  
 कृतप्रतिज्ञ 339 44  
 संकल्प कर्ता 500.11  
 प्रणीत  
 प्रवर्तित 693 13  
 रथित 527.12  
 लिखित 448.26  
 प्रणीत [प्रणीता]  
 पहुँचा [पहुँची] 1053.16  
 प्रणीत करना  
 पहुँचाना 1053.9  
 प्रणीत होना  
 पहुँचना 1053.8  
 प्रणीता  
 प्रेमपात्रा 369.5  
 प्रणीता  
 पहुँचाने वाला 1053.17  
 प्रवर्तक 693.14  
 रथेता 527.14  
 संस्थापक 693.10  
 साहित्य लेखक 448.2  
 प्रणय  
 प्रेम योग्य 368 18  
 प्रणोदक  
 ऊर्जायक 101.15  
 प्रणोदक 1051.33 ⇨  
 प्रणोदन  
 ऊर्जायन 101.6  
 प्रणोदन 1051.1 ⇨

हैकाई 1079.11  
 प्रणोदन उपकरण  
 प्रणोदित्र 1051.3  
 प्रणोदन शक्ति  
 प्रणोदन शक्ति 1051.2 ⇌  
 प्रणोदन स्थल  
 लीडिंग बेस 1069.23  
 प्रणोदयिता  
 प्रणोदयिता 1051.34 ⇌  
 प्रणोदित  
 ऊर्जायित 101.14  
 गत्वरित 1046.21  
 प्रणोदित 1051.32 ⇌  
 प्रणोदित करना  
 प्रणोदित करना 1051.19 ⇌  
 प्रणोदित्र  
 प्रणोदित्र 1051.3 ⇌  
 प्रणोदी  
 प्रणोदयिता 1051.34  
 प्रतपन  
 उत्पीड़न 391.10  
 तापन 104.4  
 प्रतप्त  
 तप्त 104.22  
 प्रतर्कक  
 विदारक 544.19  
 प्रतर्दन  
 पिटाई 918.9  
 पिटेल 918.35  
 विदारक 544.19  
 विदीर्णन 544.3  
 विष्णु 768.1  
 प्रतल  
 पाणि पेट 150.2  
 प्रताडना  
 डॉट 373.11  
 प्रताडित  
 डॉटा [डॉटी] 373.33  
 पिटा [पिटी] 918.34  
 प्रतान  
 लता 111.17  
 विस्तार 981.2  
 प्रतानित  
 वितानित 600.31  
 प्रताप  
 प्रताप 849.5 ⇌  
 वीरता 396.1  
 प्रताप क्षेत्र  
 प्रताप क्षेत्र 849.6 ⇌  
 प्रतापन  
 उत्पीड़क 391.29  
 उत्पीड़न 391.10  
 तप्तक 104.23  
 तापन 104.4  
 विष्णु 768.1  
 प्रतापवान  
 प्रतापशाली 849.19

प्रतापशाली  
 प्रतापशाली 849.19 ⇌  
 प्रतापहीन  
 प्रतापहीन 850.7 ⇌  
 प्रतापी  
 उत्पीड़क 391.29  
 प्रतापशाली 849.19  
 प्रतारणा  
 छल 827.7  
 विश्वासघात 827.4  
 प्रति  
 कारणत 507.7  
 दर से 947.30  
 दिशा में 29.35  
 पुस्तक. प्रति 446.8  
 प्रतिद्वंद्वितापूर्वक 707.15  
 मुद्रित प्रति 419.8  
 विषयक 437.15  
 सदर्म मे 437.16  
 प्रतिअम्ल  
 प्रतिअम्ल 87.9 ⇌  
 प्रतिकंशुक  
 प्रतिद्वंद्वी 707.8  
 प्रतिकर्ता  
 प्रतिकर्मी 504.18  
 प्रतिशोधी 873.12  
 प्रतिकर्म  
 प्रतिकर्म 504.3 ⇌  
 प्रतिशोध 873.2  
 मत्र नाशन 758.8  
 प्रतिकर्म करना  
 प्रतिकर्म करना 504.15 ⇌  
 प्रतिकर्मी  
 प्रतिकर्मी 504.18 ⇌  
 प्रतिकर्षण  
 प्रतिकर्षण 1050.12 ⇌  
 प्रतिकर्षण 1051.11 ⇌  
 प्रतिकर्षित करना  
 प्रतिकर्षित करना 1051.26 ⇌  
 प्रतिकर्षित होना  
 प्रतिकर्षित होना 1051.25 ⇌  
 प्रतिकर्षी  
 प्रतिकर्ष्य 1050.35  
 प्रतिकर्ष्य  
 प्रतिकर्ष्य 1050.35 ⇌  
 प्रतिकार  
 प्रतिकर्म 504.3  
 प्रतिफल 510.3  
 प्रतिशोध 873.2  
 प्रतिकार इच्छा  
 प्रतिशोध भावना 873.3  
 प्रतिकारक  
 प्रतिकर्मी 504.18  
 प्रतिकार करना  
 प्रतिकर्म करना 504.15  
 प्रतिकारी  
 प्रतिकर्मी 504.18

प्रतिकूप  
 खाई 15.8  
 प्रतिकूल  
 विपरीत 310.7  
 विरोधी 886.7  
 सदर्महीन 439.7  
 प्रतिकूल ग्रह  
 अशुभ ग्रह 261.16  
 प्रतिकूलतः  
 विपरीतत 310.10  
 प्रतिकूलता  
 विपरीतता 310.2  
 विरुद्धता 886.2  
 प्रतिकूल दिशायोग  
 प्रतिकूल दिशायोग 262.14 ⇌  
 प्रतिकूल दैव  
 दुर्भाग्य 260.18  
 प्रतिकूल परिस्थिति  
 कुसयोग 69.3  
 प्रतिकूल समय  
 अनुपयुक्त अवसर 70.4  
 प्रतिकूला  
 सीत 803.9  
 प्रतिकृति  
 अनुकृति 397.27  
 प्रतिबिंब 286.7  
 प्रतिकृष्यता  
 प्रतिकर्षण 1050.12  
 प्रतिकेंद्र  
 केद्रापसारी 971.27  
 प्रतिकेंद्रण  
 केद्रापसरण 971.13  
 प्रतिकेंद्र बल  
 अपकेंद्र बल 1050.3  
 प्रतिक्रम  
 अग्रोह क्रम 991.4  
 प्रतिक्रांति  
 प्रतिक्रांति 903.9 ⇌  
 प्रतिक्रियतः  
 प्रतिक्रियतः 504.23 ⇌  
 प्रतिक्रिया  
 उत्तर 334.1  
 प्रतिकर्म 504.3  
 प्रतिक्रिया 504.4 ⇌  
 प्रतिशोध 873.2  
 प्रतिक्रियात्मक  
 प्रतिक्रियात्मक 504.22 ⇌  
 प्रतिक्रिया प्रणोदन  
 विस्फोट प्रणोदन 1051.5  
 प्रतिक्रिया में  
 प्रतिक्रियतः 504.23  
 प्रतिक्रियावाद  
 प्रतिक्रियावाद 884.17 ⇌  
 प्रतिक्रियाशील  
 प्रतिक्रियात्मक 504.22  
 प्रतिक्रियाहीन  
 अनुभूतिहीन 264.19

प्रतिक्रियाहीनता  
 निरुत्तरता 335.2  
 प्रति क्षण  
 प्रति क्षण 1049.19 ⇌  
 प्रतिक्रिज  
 प्रतिक्रिज 1020.11 ⇌  
 प्रतिक्रिजता  
 प्रतिक्रिजता 1020.4 ⇌  
 प्रतिक्लेष  
 टिप्पा 1052.10  
 प्रतिक्लेषण  
 टिप्पा उछालन 1052.8  
 प्रतिक्लेष्यता  
 टिप्पाशीलता 1052.9  
 प्रतिगत  
 अस्मृत 357.9  
 प्रतिगत 1095.21 ⇌  
 प्रतिगति  
 पश्चगति 1095.5  
 प्रतिगतिक  
 प्रतिगामी 1095.22  
 प्रतिगतिशील  
 प्रतिगामी 1095.22  
 प्रतिगमनः प्रार्थना  
 विसर्जन 1054.5  
 प्रतिगमनशील  
 प्रतिगामी 1095.22  
 प्रतिगामिता  
 पश्चगति 1095.5  
 प्रतिगामी  
 अयनतिशील 535.6  
 प्रतिगामी 1095.22 ⇌  
 प्रतिगुप्तधर  
 प्रतिगुप्तधर 866.16 ⇌  
 प्रतिगुप्तधर्या  
 प्रतिगुप्तधर्या 866.15 ⇌  
 प्रतिग्रहण  
 अंगीकरण 1002.3  
 आदान 637.1  
 दान ग्रहण 641.16  
 प्रतिघटी  
 प्रतिघटी 1033.22 ⇌  
 प्रतिघटी घूर्णन  
 प्रतिघटी परिक्रमा 1033.6  
 प्रतिघटी चक्रण  
 प्रतिघटी परिक्रमा 1033.6  
 प्रतिघटी परिक्रमा  
 प्रतिघटी परिक्रमा 1033.6 ⇌  
 प्रतिघट्ट  
 टक्कर 1051.16  
 प्रतिघात  
 प्रतिप्रहार 918.4  
 प्रतिशोध 873.2  
 प्रतिहिंसा 251.16  
 प्रत्याक्रमण 914.5  
 हत्या 251.5  
 प्रतिघातक  
 प्रतिप्रहार कर्ता 918.33

## प्रतिचार

प्रतिचार  
शुगर कर्म 222 9  
प्रतिछाया  
परछाई 286 6  
पुतला 406 5  
प्रतिरूप 967 9  
मूर्ति 406 1  
प्रतिजाल्प  
उत्तर 334 1  
प्रतिज्ञा  
कृतप्रतिज्ञा 339 44  
प्रतिज्ञा  
प्रतिज्ञा 339 17 ⇨  
यधन 339 15  
सकल्प 500 1  
प्रतिज्ञा करना  
प्रतिज्ञा करना 339 29 ⇨  
प्रतिज्ञा कर्ता  
कृतप्रतिज्ञा 339 44  
प्रतिज्ञान  
अशपथ घोषणा 339 22  
प्रतिज्ञा पत्र  
अनुबध पत्र 339 2  
शपथ पत्र 339 21  
प्रतिज्ञापन  
अशपथ घोषणा 339 22  
प्रतिज्ञा पालक  
प्रतिज्ञा पालक 339 47 ⇨  
प्रतिज्ञा पालन  
प्रतिज्ञा पूर्ति 339 19  
प्रतिज्ञा पालन करना  
प्रतिज्ञा पूरी करना 339 30  
प्रतिज्ञा पालना  
प्रतिज्ञा पूरी करना 339 30  
प्रतिज्ञा पूरी करना  
प्रतिज्ञा पूरी करना 339 30 ⇨  
प्रतिज्ञा पूर्ति  
प्रतिज्ञा पूर्ति 339 19 ⇨  
प्रतिज्ञा भंग  
प्रतिज्ञा भंग 338 17 ⇨  
प्रतिज्ञा भंग करना  
प्रतिज्ञा भंग करना 338 31 ⇨  
प्रतिज्ञा भंगन कर्ता  
भंगनप्रतिज्ञा 338 49  
प्रतिदान  
प्रतिकर्म 504 3  
प्रतिदान 641.7 ⇨  
बधक वापसी 633 22  
प्रति दिन  
प्रति दिन 73 8 ⇨  
प्रति दिन 1049 20 ⇨  
हमेशा 1049 17  
प्रतिदिश  
धनुर्दिशात् 29 36  
प्रतिदीप्ति  
घट्टस्वरता 285 35  
प्रतिदेवता  
ग्रह प्रत्यधिपति 261 18

प्रतिद्रोह  
प्रतिद्रोह 873 2  
प्रतिद्वंदी  
विपक्षधर 886 6  
प्रतिद्वंद्विताः  
प्रतिद्वंद्वितापूर्वक 707 15  
प्रतिद्वंद्विता  
प्रतिद्वंद्विता 707 1 ⇨  
प्रतिद्वंद्विता करना  
प्रतिद्वंद्विता करना 707.5 ⇨  
प्रतिद्वंद्वितापूर्वक  
प्रतिद्वंद्वितापूर्वक 707 15 ⇨  
प्रतिद्वंद्विता में  
प्रतिद्वंद्वितापूर्वक 707 15  
प्रतिद्वंद्वी  
प्रतिद्वंद्वी 707 8 ⇨  
प्रेम प्रतिद्वंद्वी 368 4  
शत्रु 706 2  
प्रतिद्वंद्वी प्रेमिका  
प्रेम प्रतिद्वंद्विनी 368 5  
प्रतिद्वंद्वी प्रेमी  
प्रेम प्रतिद्वंद्वी 368 4  
प्रतिद्वंद्वी योद्धा  
प्रतियोद्धा 934 19  
प्रतिद्वंद्वीहीनता  
अनुपमता 312 4  
प्रतिद्वंद्वी होना  
प्रतिद्वंद्विता करना 707 5  
प्रतिध्वनक  
प्रतिध्वनिकारी 294 24  
प्रतिध्वनन  
प्रतिध्वनन 294 5 ⇨  
प्रतिध्वनि  
प्रतिध्वनि 294 4 ⇨  
प्रतिध्वनिक  
प्रतिध्वनिक थाह मापन 958 18  
प्रतिध्वनिक थाह मापन  
प्रतिध्वनिक थाह मापन 958 18 ⇨  
प्रतिध्वनिकारी  
प्रतिध्वनिकारी 294.24 ⇨  
प्रतिध्वनित  
प्रतिध्वनित 294 23 ⇨  
प्रतिध्वनित्र  
ईको सारुंडर 958 19  
प्रतिध्वनिकारी 294 24  
प्रतिध्वनि होना  
प्रतिध्वनि होना 294 16 ⇨  
प्रतिनात्ता  
परपोता 722 16  
प्रतिनमन  
प्रतिनमन 1050 18 ⇨  
प्रतिनम्यता  
प्रतिनम्यता 1050 17 ⇨  
प्रतिनयन  
पुनरानयन 1053 4  
प्रतिनाद  
प्रतिध्वनि 294 4

प्रतिनादी  
प्रतिध्वनिकारी 294 24  
प्रतिनायक  
प्रतिनायक 467 8 ⇨  
मूर्ति 406 1  
प्रतिनायिका  
प्रतिनायिका 467 12 ⇨  
प्रतिनारी  
प्रतिनायिका 467 12  
प्रतिनिधि  
अधिकार प्रदत्त व्यक्ति 897 9  
खलीफा 744 17  
दूत 443 9  
प्रतिनिधि 888 26 ⇨  
सदेश वाहक 443 3  
सवाददाता 445 22  
सहकारी कर्मचारी 652 31  
प्रतिनिधि चयन  
निर्वाचन 888 1  
प्रतिनिधित्व  
जन प्रतिनिधित्व 888 24  
दूत कर्म 443 8  
प्रतिनिधित्व 888 23 ⇨  
प्रतिनिधि मंडल  
प्रतिनिधि मंडल 888 28 ⇨  
अनुपमता 312 4  
प्रतिनिधि योद्धा  
प्रतिनिधि योद्धा 934 18 ⇨  
प्रतिनिधि शासक  
राजा प्रतिनिधि शासक 882 29  
प्रतिनिधि सूची  
प्रतिनिधि सूची 888.27 ⇨  
प्रतिनियम  
विधि (कानून) 878 1  
प्रतिनिर्यातन  
प्रतिप्रेषण 1054 4  
प्रतिनीत  
पुनरानीत 1053 15  
प्रतिनोदन  
प्रतिनोदन 1051 4 ⇨  
प्रतिनोदित  
प्रतिनोदित 1051 35 ⇨  
प्रतिनोदित होना  
प्रतिनोदित होना 1051.20 ⇨  
प्रतिपक्ष  
उत्तर पक्ष 324 13  
विरोध पक्ष 886 3  
प्रतिपक्षता  
विपक्षधरता 886 1  
शत्रुता 706 1  
प्रतिपक्ष प्रस्तोता  
उत्तर पक्ष प्रस्तोता 324 14  
प्रतिपक्ष समर्थन  
विपक्षधरता 886 1  
प्रतिपक्षी  
उत्तर पक्ष प्रस्तोता 324 14  
प्रतिद्वंद्वी 707 8  
प्रतिरोधी 329 25  
विपक्षधर 886 6

शत्रु 706 2  
प्रतिपक्षी दलः सामना  
आमना सामना 915 3  
प्रतिपक्षी नायक  
प्रतिनायक 467.8  
प्रतिपक्षीय  
विपक्षधर 886 6  
प्रतिपक्षि  
कार्य आरम्भ 521 1  
प्रतिपादन 326 1  
प्रमाण 327 1  
प्रतिपद  
आरम्भिक सगीत 457 7  
गीत आरम्भिक भाग 451 24  
पश्चगति 1095 5  
प्रवेश 1094 1  
प्रतिपदा  
प्रतिपदा 44 7 ⇨  
प्रतिपदाः देवी  
सिनीवाली 774 102  
प्रतिपदायुक्त पूर्णिमा  
प्रतिपदायुक्त पूर्णिमा 44 25 ⇨  
प्रतिपन्न  
उपपन्न 328 10  
स्वीकृत 337 16  
प्रतिपरीक्षा  
जिरह 324 7  
जिरह 876 7  
प्रति पल  
प्रति क्षण 1049 19  
प्रतिपादक  
प्रतिपादक 326 16 ⇨  
प्रतिपादन  
प्रतिपादन 326 1 ⇨  
भाषण 430 8  
प्रतिपादन करना  
प्रतिपादन करना 326 7 ⇨  
प्रतिपादयिता  
भाषण दाता 430 23  
प्रतिपादित  
प्रतिपादित 326 14 ⇨  
प्रतिपाद्य  
प्रतिपाद्य 326 15 ⇨  
प्रतिपाद्य विषय  
पूर्व पक्ष 324 11  
प्रतिपाल  
सरक्षक 908 26  
प्रतिपालक  
अभिपिता 720 12  
पालक पोषक 720 20  
सकट मोचक 910.10  
सरक्षक 908 26  
प्रतिपालन  
आज्ञा पालन 347 6  
कार्यान्वयन 505 5  
प्रतिपीडन  
हिंसा 251 15

तिपीङ्गोन्माद  
उत्पीङ्गोन्माद 353 19  
तिपुरुष  
पुतला 406 5  
प्रतिनिधि 888 26  
प्रतिनिधि सूची 888 27  
राजा प्रतिनिधि शासक 882 29  
सहकारी कर्मचारी 652.31  
स्थानापन्न व्यक्ति 653.21  
तिपूर्त  
प्रतिपूर्त 634 35 ⇌  
तिपूर्त करना  
प्रतिपूर्त करना 634 22 ⇌  
तिपूर्ति  
प्रतिपूर्ति 634 15 ⇌  
तिपोषक  
अनुसमर्थक 329 23  
तिप्रणाम  
अभिवादन उत्तर 1060 22  
तिप्रश  
प्रतिप्रदत्त 638 16  
ति प्रदक्षिणा  
प्रतिघटी परिक्रमा 1033 6  
तिप्रदक्ष  
प्रतिप्रदक्ष 638 16 ⇌  
तिप्रदाता  
प्रतिप्रदाता 638.17 ⇌  
तिप्रदान  
प्रतिप्रदान 638 3 ⇌  
तिप्रदान कर्ता  
प्रतिप्रदाता 638 17  
तिप्रवाह  
प्रतिप्रवाह 1096 17 ⇌  
तिप्रश्न  
जिरह 324 7  
प्रतिप्रश्न 333.5 ⇌  
तिप्रस्थ  
प्रतिक्षिज 1020 11  
तिप्रस्थता  
प्रतिक्षिजता 1020 4  
तिप्रहार  
प्रतिप्रहार 918.4 ⇌  
तिप्रहार करना  
प्रतिप्रहार करना 918.22 ⇌  
तिप्रहार कर्ता  
प्रतिप्रहार कर्ता 918.33 ⇌  
तिप्राप्त होना  
खोजा जाना 863.5  
तिप्राप्ति  
प्रतिलब्धि 863 3  
तिप्रिय  
प्रत्युपकार 832 3  
प्रत्युपहार 640.5  
तिप्रेषण  
प्रतिप्रेषण 868.10 ⇌  
तिप्रेषण 1054.4 ⇌  
तिप्रेषित  
प्रतिप्रेषित 1054.25 ⇌

तिप्रेषित करना  
लौटाना 1054 12  
तिप्रप्लव  
पीठे कूद 1086 9  
तिप्रफल  
नाटक फलागम 466 16  
परिणाम 510 1  
पारिश्रमिक 643 8  
पुरस्कार 857 1  
प्रतिकर्म 504.3  
प्रतिदान 641 7  
प्रतिफल 510 3 ⇌  
तिप्रफलक  
प्रकाश परावर्तक 288 13  
तिप्रफल दान  
प्रत्युपकार 832 3  
तिप्रफल न मिलना  
प्रतिफल न मिलना 510.9 ⇌  
तिप्रफल प्राप्ति  
प्रतिफल भोग 510 4  
तिप्रफल भोग  
प्रतिफल भोग 510.4 ⇌  
तिप्रफल भोगना  
प्रतिफल भोगना 510.8 ⇌  
तिप्रफल भोगी  
प्रतिफल भोगी 510.13 ⇌  
तिप्रफल मिलना  
प्रतिफल मिलना 510 7 ⇌  
तिप्रफलहीन  
प्रतिफलहीन 510 14 ⇌  
तिप्रफलहीनता  
प्रतिफलहीनता 510.5 ⇌  
तिप्रफलित  
प्रतिफलित 510 12 ⇌  
तिप्रबंध  
अननुमति 338 3  
अनुबंध 339 1  
निषेध 880 1  
वैदर्यकता 339 8  
शर्त 339 11  
तिप्रबंधक  
अनुबंधकारी 339.33  
जमानतदार 869 8  
निषेध कर्ता 880.11  
बचक दायित्व दाता 633 21  
तिप्रबंध न होना  
निषेध न होना 880 8  
तिप्रबंधपूर्ण  
निषेधात्मक 880.10  
तिप्रबंध लगाना  
निषिद्ध करना 880.6  
तिप्रबंधहीन  
अनिषिद्ध 880.13  
तिप्रबंधहीनतः  
अनिषिद्धतः 880.15  
तिप्रबंधहीनता  
अनिषेध 880.2

तिप्रबंधित  
अनुबंधित 339 32  
निषिद्ध 880 12  
तिप्रबंधित करना  
निषिद्ध करना 880 6  
तिप्रबंधी  
आबद्ध कर्ता 1013 23  
निषेध कर्ता 880 11  
तिप्रबंधु  
घनिष्ठ मित्र 704 14  
तिप्रबंधुता  
घनिष्ठता 704 13  
तिप्रबद्ध  
अनुबंधित 339 32  
प्रतिबद्ध 826 13 ⇌  
तिप्रबद्धता  
कर्तव्य पालन 895 5  
प्रतिबद्धता 826 6 ⇌  
सम्पन्नता 491.4  
तिप्रबल  
समान प्रतियोगिता 707 3  
तिप्रबाधक  
निषेध कर्ता 880 11  
तिप्रबाधकता  
वैदर्यकता 339 8  
तिप्रबाधित  
निषिद्ध 880 12  
प्रतिबद्ध 826 13  
तिप्रबाधी  
निषेध कर्ता 880 11  
तिप्रबिंब  
चित्र 404.1  
पोर्ट्रेट 404 2  
प्रतिबिंब 286 7 ⇌  
प्रतिरूप 967 9  
तिप्रबिंबक  
प्रकाश परावर्तक 288 13  
तिप्रबिंबन  
अनुकरण 505 8  
प्रकाश परावर्तन 288.6  
तिप्रबिंबित  
सादृश्याभासित 309 21  
तिप्रबुद्ध  
उद्बोधित 499 10  
तिप्रबोध  
स्मृति लाम 356.10  
तिप्रबोधक  
उद्बोधक 499.11  
तिप्रबोधन  
उद्बोधन 499.3  
तिप्रबट  
प्रतिबद्धि 707.8  
प्रतियोद्धा 934 19  
तिप्रभा  
तेजस्विता 839.5  
दीप्ति 287.16  
प्रतिमा 301.8 ⇌

तिप्रभा (दे.)  
बुद्धि 301 1  
तिप्रभाकूट  
बोधिसत्व सूची 793 16  
तिप्रभार  
प्रतिभार 1061 9 ⇌  
तिप्रभावान  
प्रतिभाशाली 301.27  
तिप्रभाशाली  
प्रतिभाशाली 301 27 ⇌  
तिप्रभा संपन्न  
प्रतिभाशाली 301 27  
तिप्रभाहीन  
प्रतिभाहीन 302 12 ⇌  
तिप्रभू  
जमानतदार 869 8  
बचक दायित्व दाता 633 21  
तिप्रभूति  
जमानत 869 2  
प्रतिभूति 628.19 ⇌  
बचक दायित्व 633 20  
तिप्रभेदन  
प्रतिगुप्तचर्या 866 15  
तिप्रमंडल  
उत्केद्र चक्र 973 2  
तिप्रमंत्रित  
अभिमंत्रित 758 40  
तिप्रमस्ल  
कुश्तीबाज़ 486 9  
प्रतिद्वंद्वी 707 8  
प्रतियोद्धा 934 19  
तिप्रमा  
आकार रूप 967 5  
चित्र 404 1  
चिह्न 407 1  
प्रतिबिंब 286.7  
प्रतिरूप 967 9  
प्रतीक 408 1  
प्रतीक चिह्न 408 2  
मूर्ति 406 1  
तिप्रमागत  
चित्रांकित 404 36  
चित्रांश 404 18  
तिप्रमान  
परछाई 286.6  
प्रतियोगी 707 9  
प्रतिरूपी 967 19  
बाट 962.27  
मानदंड 957 5  
तिप्रमा परिचारक  
पुजारी 744 7  
तिप्रमाया  
जवाबी जादू 474 3  
तिप्रमाला  
बॉसठ कला सूची 397 4  
तिप्रमा विधान  
मूर्ति कला 406 16

## प्रतिमिति

### प्रतिमिति

अनुकृति 397 27

### प्रतिमुख

अभिमुख 1023 9

विरुद्धत 886 8

### प्रतिमुद्रा

मुद्रांक 414 17

### प्रतिमूर्त

प्रतिरूपी 967 19

### प्रतिमूर्ति

पुतला 406 5

प्रतिरूप 967 9

मूर्ति 406 1

### प्रतियत्न

प्रतिशोध 873 2

### प्रतियातना

पुलिस यत्रणा 391 15

प्रतिशोध 873 2

### प्रतियुद्ध

प्रतिरोध 915 1

### प्रतियोग

मत्र नाशक 758 9

मत्र नाशन 758 8

विरोध 886 4

### प्रतियोगिता

प्रतियोगिता 707 2 ⇨

शत्रुता 706.1

### प्रतियोगिता करना

प्रतियोगिता करना 707 6 ⇨

### प्रतियोगितापूर्वक

प्रतियोगितापूर्वक 707 16 ⇨

### प्रतियोगी

प्रतियोगी 707.9 ⇨

विरोधी 886 7

शत्रु 706 2

### प्रतियोगीहीनता

अनुपमता 312 4

### प्रतियोगी होना

प्रतियोगिता करना 707 6

### प्रतियोद्धा

प्रतियोद्धा 934 19 ⇨

### प्रतियोध

प्रतिरोध 915 1

### प्रतियोधा

प्रतियोद्धा 934 19

### प्रतियोधी

प्रतिद्वंद्वी 707 8

प्रतियोद्धा 934 19

### प्रतिरक्षक

प्रतिरक्षक 908 24 ⇨

### प्रतिरक्षण

दुर्गाकरण 907 12

### प्रतिरक्षा

प्रतिरक्षा 908 2 ⇨

### प्रतिरक्षात्मक

प्रतिरक्षात्मक 908 25 ⇨

### प्रतिरक्षिता

प्रतिरक्षक 908 24

### प्रतिरक्षी

प्रतिरक्षक 908 24

### प्रतिरुद्ध

रोधित 920 21

### प्रतिरूप

चित्र 404.1

पोर्ट्रेट 404.2

प्रतिरूप 967 9 ⇨

प्रतीक 408 1

मूर्ति 406 1

### प्रतिरूपक

चित्र 404 1

जाली दस्तावेज 412 21

पोर्ट्रेट 404 2

प्रतिबिम्ब 286 7

प्रतीक 408 1

प्रतीकात्मक 408 17

### प्रतिरूपतः

प्रतिरूपतः 967 23 ⇨

### प्रतिरूपता

सादृश्य 309 3

### प्रतिरूपी

प्रतिरूपी 967 19 ⇨

### प्रतिरोगण

रोग निवारण 170 1

### प्रतिरोध

अवरोध 1047.8

निषेध 880 1

प्रतिरोध 915 1 ⇨

प्रतिरोध 329 4 ⇨

विपक्षधरता 886 1

विरोध 886 4

### प्रतिरोध असफल होना

प्रतिरोध असफल होना 915 6 ⇨

### प्रतिरोधक

प्रतिरोधी 915 11

प्रतिरोधी 329 25

रोधक 920.22

### प्रतिरोध करना

प्रतिरोध करना 915 4 ⇨

प्रतिरोध करना 329.14 ⇨

### प्रतिरोध कर्ता

प्रतिरोधी 915 11

प्रतिरोधी 329 25

### प्रतिरोध क्षीण होना

प्रतिरोध क्षीण होना 915.5 ⇨

### प्रतिरोधन

रोधन 920.5

### प्रतिरोधित

प्रतिरोधित 915.10 ⇨

प्रतिरोधित 329.24 ⇨

रोधित 920 21

### प्रतिरोधी

प्रतिरोधी 329.25 ⇨

प्रतिरोधी 915 11 ⇨

रोधक 920 22

### प्रतिरोपण

रोपण 548 8

### प्रतिरोपित

रोपित 548 52

### प्रतिलब्ध

प्रतिलब्ध 863 8 ⇨

### प्रतिलब्ध करना

खोज पाना 863 6

### प्रतिलब्धा

प्रतिलब्धा 863.9 ⇨

### प्रतिलब्धि

प्रतिलब्धि 863 3 ⇨

### प्रतिल्लाभ

प्रतिलब्धि 863 3

### प्रतिलिपि

अनुकृति 397 27

प्रतिलिपि 414.1 ⇨

### प्रतिलिपिक

प्रतिलिपिक 414.2 ⇨

### प्रतिलिपिकार

प्रतिलिपिक 414 2

### प्रतिलोम

अवरोह क्रमिक 991 23

वाम पार्श्वीय 997.22

विपरीत 310 7

विरोधी 886 7

### प्रतिलोम क्रम

अवरोह क्रम 991 4

### प्रतिलोमतः

अवरोहत् 991 30

### प्रतिलोमता

विरुद्धता 886 2

### प्रतिवक्ता

उत्तरदाता 334 13

व्याख्याता 427 32

### प्रतिवनिता

सूत 803 9

### प्रतिवर्तन

क्रम परिवर्तन 992 3

पुनरावृत्ति 73.1

प्रतिवर्तन 532 9 ⇨

### प्रतिवस्तु

उपमान 309.8

प्रतिरूप 967.9

### प्रतिबहन

पुनरानयन 1053.4

### प्रतिवाक्य

उत्तर 334.1

### प्रतिवाणी

प्रतिवाद 324 10

### प्रतिवात स्थान

प्रतिवात स्थान 1073.24 ⇨

### प्रतिवातित्र

प्रतिवातित्र 85.31 ⇨

### प्रतिवाद

खंडन 326.3

प्रतिवाद 324.10 ⇨

प्रतिवाद 875.11 ⇨

### प्रतिवाद करना

प्रतिवाद करना 324 22 ⇨

### प्रतिवाद कर्ता

प्रतिवादी 324 29

### प्रतियादी

अभियुक्त 875.4

प्रतिवादी 324 29 ⇨

प्रतिवादी 875 12 ⇨

विरोधी 866 7

### प्रतिवादी पक्ष

उत्तर पक्ष 324 13

### प्रतिवारण

निवारण 920 4

### प्रतिवारित

निवारित 920 17

रोधित 920.21

### प्रतिवार्ता

उत्तर 334 1

### प्रतिवाहित

पुनरानीत 1053 15

### प्रतिविधि

प्रतिकर्म 504 3

### प्रतिविस्फोट

प्रतिविस्फोट 1051 6 ⇨

### प्रतिवीर

प्रतिद्वंद्वी 707 8

प्रतियोद्धा 934 19

### प्रतिवृत्त

उत्केंद्र चक्र 973 2

### प्रतिवेश

पड़ोस 31.3

### प्रतिवेशी [प्रतिवेशिनी]

पड़ोसी 31 4

### प्रतिवेशर

प्रतिशोध 873.2

### प्रतिव्रजन

गृहागमन 1100.4

### प्रति शत

प्रति शत 947.31 ⇨

### प्रतिशब्द

प्रतिध्वनि 294 4

### प्रतिशब्द व्याख्या

प्रतिशब्द व्याख्या 427.17 ⇨

### प्रतिशासक

रीजेंट 882.30

### प्रतिशासन

प्रत्यावाहन 1055.4

### प्रतिशासित

प्रत्यावाहित 1055.15

### प्रतिशिट

प्रत्यावाहित 1055 15

### प्रतिशीत

तरल 80.5

द्रवित 80.6

### प्रतिशोध

प्रतिशोध 873.2 ⇨

### प्रतिशोध कर्ता

प्रतिशोधी 873.12

### प्रतिशोध भावना

प्रतिशोध भावना 873.3 ⇨

तिशोष लेना  
क्षमा न करना 873.7  
प्रतिशोध लेना 873.8 ⇨  
प्रतिशोधहीन  
सहिष्णु 872 16  
प्रतिशोधहीनता  
क्षमा 872 1  
प्रतिशोधी  
क्षमाहीन 873 11  
प्रतिशोधी 873.12 ⇨  
प्रतिश्रुत  
वचन दत्त 339 40  
वचनबद्ध 339 39  
प्रतिश्रुति  
प्रतिज्ञा 339 17  
प्रतिश्रोता  
स्वीकृति दाता 337 18  
प्रतिषेध  
अननुमति 338 3  
प्रतिषेधक  
निषेध कर्ता 880 11  
प्रतिष्ठा  
कीर्तिस्य 621 9  
प्रतिष्ठा 849 2 ⇨  
संस्थापना 693 1  
प्रतिष्ठा (दे.)  
ख्याति 847 1  
प्रताप 849 5  
प्रतिष्ठा कम होना  
प्रतिष्ठा हानि होना 850 4  
प्रतिष्ठा खोना  
प्रतिष्ठा हानि होना 850 4  
प्रतिष्ठान  
रैस्ट हाउस 1090 27  
संस्था 692 1  
स्थान 33 1  
प्रतिष्ठानुकूल  
प्रतिष्ठानुकूल 849.17 ⇨  
प्रतिष्ठापक  
संस्थापक 693 10  
स्थित कर्ता 1020.9  
प्रतिष्ठापन  
स्थितन 1020 3  
प्रतिष्ठापना  
मंदिर प्रतिष्ठापना 598 7  
संस्थापना 693.1  
प्रतिष्ठापयिता  
संस्थापक 693.10  
स्थित कर्ता 1020.9  
प्रतिष्ठापित  
संस्थापित 693.9  
प्रतिष्ठा बढ़ना  
प्रतिष्ठा बढ़ना 849.11 ⇨  
प्रतिष्ठा भक्त  
प्रतिष्ठा भक्त 849.16 ⇨  
प्रतिष्ठा मिलना  
प्रतिष्ठा मिलना 849.10 ⇨

प्रतिष्ठा बुद्धि  
प्रतिष्ठा बुद्धि 849.3 ⇨  
प्रतिष्ठा हानि  
अपमान 855 1  
प्रतिष्ठा हानि होना  
प्रतिष्ठा हानि होना 850.4 ⇨  
प्रतिष्ठाहीन  
अप्रतिष्ठित 850 5  
प्रतिष्ठाहीनता  
अप्रतिष्ठित 850 1  
प्रतिष्ठित  
ख्यात 847 3  
दृढ़ आधारित 1019.21  
नियुक्त 653 32  
प्रतिष्ठित 849.15 ⇨  
सुस्थित 1020 10  
प्रतिष्ठित होना  
प्रतिष्ठा मिलना 849 10  
प्रतिसंगी  
अनुचर 696 16  
प्रतिसंधान  
तीर प्रक्षेपण 1052 5  
प्रतिसंधि  
युग संधि 40 4  
प्रतिसंहरण  
निरसन 338 9  
प्रतिसंहार  
उपसंहार 466 18  
नाटक फलागम 466 16  
प्रतिसंछत  
निरस्त 338 39  
प्रतिसम  
विषम सख्यक 949 30  
समान (प्रतियोगी) 707 10  
प्रतिसर्ग  
सृष्टि रचना 529 1  
प्रतिसारण  
विकर्षण 1050 11  
प्रतिस्थापना  
प्रतिस्थापना 1036 8 ⇨  
प्रतिस्पर्धा  
प्रतिद्विदिता 707 1  
प्रतियोगिता 707 2  
प्रतिस्पर्धी  
प्रतियोगी 707 9  
प्रतिस्वन  
प्रतिध्वनि 294.4  
प्रतिहरण  
अपनयन 1053.3  
प्रतिहस्तक  
स्थानापन्न 653.38  
प्रति हस्ताक्षर  
प्रति हस्ताक्षर 444.9 ⇨  
प्रति हस्ताक्षरित  
प्रति हस्ताक्षरित 444.39 ⇨  
प्रतिहार  
निवारण 920 4

प्रतिहार [प्रतिहारी]  
द्वार पहरेदार 908.13  
प्रतिहारण  
प्रविष्टायन 1094 4  
प्रतिहारी [प्रतिहारिणी]  
द्वार पहरेदार 908.13  
प्रतिहार्य  
जादूगरी 474 9  
प्रतिहिंसा  
प्रतिशोध 873.2  
प्रतिहिंसा 251.16 ⇨  
प्रतीक  
चिह्न 407 1  
ध्वजा 408 4  
प्रतिरूप 967 9  
प्रतीक 408.1 ⇨  
प्रतीक चिह्न 408 2  
प्रथमाक्षरी नाम 980 8  
प्रथमाक्षरी शब्द 980 7  
प्रतीक अंकन  
प्रतीक लिपि 409 11  
प्रतीक चित्र  
प्रतीक चिह्न 408 2  
प्रतीक चिह्न  
प्रतीक चिह्न 408 2 ⇨  
प्रतीक लिपि  
प्रतीक लिपि 409 11 ⇨  
प्रतीकात्मक  
प्रतीकात्मक 408 17 ⇨  
प्रतीक्ष  
प्रतीक्षक 1057 10  
प्रतीक्षक  
प्रतीक्षक 1057 10 ⇨  
प्रतीक्षण  
वचन पालन 339 16  
प्रतीक्ष  
घात प्रतीक्षा 914 1  
प्रतीक्षा 1057 1 ⇨  
प्रत्याशा 375 5  
प्रतीक्षा कक्ष  
प्रतीक्षा कक्ष 614 11 ⇨  
प्रतीक्षा करना  
प्रतीक्षा करना 1057.5 ⇨  
प्रतीक्षा कर्ता  
प्रतीक्षक 1057 10  
प्रतीक्षाकुल  
प्रतीक्षारत 1057 9  
प्रतीक्षापूर्ण  
प्रतीक्षापूर्ण 1057 8 ⇨  
प्रतीक्षारत  
प्रतीक्षारत 1057.9 ⇨  
प्रतीक्षालय  
दर्शक प्रतीक्षालय 471.3  
प्रतीक्षालय 614.12 ⇨  
प्रतीक्षारिील  
प्रतीक्षारत 1057.9  
प्रतीक्षा हाल  
प्रतीक्षालय 614.12

प्रतीक्षित  
प्रतीक्षित 1057.7 ⇨  
प्रत्याशित 375 9  
प्रतीक्षी  
प्रतीक्षक 1057 10  
प्रतीक्षी  
पश्चिम 29 12  
प्रतीक्षीन  
पश्च 995 16  
पश्चिमी 29 33  
प्रतीक्षीश  
वरुण 773 43  
प्रतीक्ष्य  
पश्चिमी 29 33  
प्रतीक्ष  
ज्ञात 305 29  
सादृश्याभासित 309 2 1  
प्रतीक्ष होना  
सादृश्य आभास होना 309 12  
प्रतीक्षि  
ज्ञान 305 1  
भ्रम 342 1  
रसानुभूति 455 4  
विश्वास 340 1  
श्रद्धा 340 5  
सादृश्य आभास 309 4  
प्रतीक्ष  
अप्रिय 370 5  
अवरोधक 1047 28  
धिपरीत 310 7  
विरोधी 886 7  
प्रतीक्ष अलंकार  
अतिशयोक्ति अलंकार 454 3  
प्रतीक्ष क्रम  
धिपरीत गणना 950 2  
प्रतीक्ष गमन  
पश्चगति 1095 5  
प्रतीक्षी  
विरोधी 886 7  
प्रतीक्षोक्ति  
खडन 326.3  
प्रतीक्षमान  
सादृश्याभासित 309 2 1  
प्रतीक्षयाप  
मिश्र धातु 93 3  
प्रतोद  
कोचनी 555 22  
प्रतोली  
गली 1063 49  
छतदार बाजार 663.3  
बाजार 663 1  
मुख्य सड़क 1063 34  
शहरी सड़क 1063.37  
सुरंग 1065 1  
प्रत्यंग  
उपांग 139 9  
प्रत्यंगिरा  
ऋषि मुनि सूची 789 17

## प्रत्यंचन

दुर्गा 776 7  
शिरीष 13 21  
प्रत्यंचन  
तीर प्रक्षेपण 1052 5  
प्रत्यंचा  
कमानी स्त्रिग 1050 20  
घापकर्ण 972 10  
धनुष प्रत्यघा 926 15  
प्रत्यंचा खीचा  
धनुष छोर 926 14  
प्रत्यंचा प्रतिक्रिया  
प्रतिनम्यता 1050 17  
प्रत्यंच्यता  
प्रतिनम्यता 1050 17  
प्रत्यंत  
आसन्न 67 10  
निकट मे 31 9  
परिक्षेत्र 34 3  
सीमात 1001 19  
सीमा 1001 1  
प्रत्यंतर  
सीमेतर क्षेत्र 34 5  
प्रत्यक् घेतन  
पुरुष 764 21  
प्रत्यक्ष  
दृश्यमान 282 19  
प्रत्यक्ष दृष्ट 284 50  
प्रत्यक्ष (दे)  
समक्ष 1021 8  
प्रत्यक्ष अनुभूति  
प्रत्यक्ष अनुभूति 263 3 ⇨  
प्रत्यक्ष अवलोकन  
प्रत्यक्ष अवलोकन 284 3 ⇨  
प्रत्यक्ष कर  
प्रत्यक्ष कर 647 4 ⇨  
प्रत्यक्ष ज्ञान  
प्रत्यक्ष अनुभूति 263 3  
प्रत्यक्ष ज्ञान 305 5 ⇨  
विज्ञान 307 1  
प्रत्यक्षतः  
प्रत्यक्षत 284 55 ⇨  
स्पष्टत 822 32  
प्रत्यक्षता  
दृश्यता 282 9  
प्रत्यक्ष अवलोकन 284 3  
प्रत्यक्षता (दे.)  
समक्षता 1021 1  
प्रत्यक्ष दर्शन  
प्रत्यक्ष अवलोकन 284 3  
प्रत्यक्ष दर्शी  
प्रत्यक्ष दर्शी 284.51 ⇨  
प्रत्यक्ष साक्षी 876 18  
प्रत्यक्ष दृष्ट  
प्रत्यक्ष दृष्ट 284 50 ⇨  
प्रत्यक्ष साक्ष्य 876 17  
प्रत्यक्ष देखना  
प्रत्यक्ष देखना 284 34 ⇨

प्रत्यक्ष प्रमाण  
प्रमाण सूची 327 2  
प्रत्यक्ष मूल्य  
अंकित मूल्य 664 2  
प्रत्यक्ष साक्षी  
प्रत्यक्ष साक्षी 876 18 ⇨  
प्रत्यक्ष साक्ष्य  
प्रत्यक्ष साक्ष्य 876 17 ⇨  
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान  
अनुमान 308 8  
प्रत्यक्ष होना  
प्रत्यक्ष होना 284 33 ⇨  
प्रत्यक्षी  
प्रत्यक्ष साक्षी 876 18  
प्रत्यधिपति  
ग्रह प्रत्यधिपति 261 18  
प्रत्यनंतर  
निकट मे 31 9  
प्रत्यनीक  
विपक्षधर 886 6  
प्रत्यपकार  
प्रतिशोध 873 2  
प्रत्यपकारी  
प्रतिशोधी 873 12  
प्रत्यभिज्ञा  
अभिज्ञान 356 11  
प्रत्यभिज्ञात  
अभिज्ञात 356 28  
प्रत्यभिज्ञा दर्शन  
अद्वैतवाद 760 8  
प्रत्यभिज्ञान  
अभिज्ञान 356 11  
प्रत्यम्ल  
प्रतिअम्ल 87 9  
प्रत्यय  
अभ्यास 303 5  
कारण 507 3  
ज्ञान 305 1  
परिवार जन 726 9  
प्रत्यय 425 19 ⇨  
विश्वास 340 1  
श्रद्धा 340 5  
प्रत्ययकारिणी  
मुद्रा 414 15  
प्रत्यय पत्र  
राजदूत परिचय पत्र 704 7  
प्रत्ययी  
श्रद्धालु 340 18  
प्रत्यर्थी  
प्रतिवादी 875 12  
विपक्षधर 886 6  
प्रत्यर्पक  
प्रतिप्रदाता 638 17  
प्रत्यर्पण  
प्रतिदान 641 7  
प्रतिप्रदान 638 3  
प्रत्यर्पण 868 11 ⇨

प्रत्यवर  
निकृष्टतम 314 7  
प्रत्यवरोधन  
अवरोधन 1047 9  
प्रत्यवरोहण  
विमान अवरोहण 1081 25  
प्रत्यवलोकन  
सिंहावलोकन 330 10  
प्रत्यवहार  
विस्तीर्णकरण 906.8  
प्रत्याक्रमण  
प्रतिहिंसा 251 16  
प्रत्याक्रमण 914 5 ⇨  
प्रत्याख्यात  
अनुमति अदत्त 338 35  
निरस्त 338 39  
प्रत्याख्यान  
निरसन 338 9  
मुकरन 338 10  
प्रत्याख्यायित  
मुकरा [मुकरी] 338 40  
प्रत्यागत  
पुनरागत 1093 16  
प्रत्यागम  
अभ्यागम 1059 11  
प्रत्यागमन  
गृहागमन 1100.4  
पुनरागमन 1093 5  
प्रत्याघात ?  
प्रतिप्रहार 918 4  
प्रत्याघात करना  
प्रतिप्रहार करना 918 22  
प्रत्याघात कर्ता  
प्रतिप्रहार कर्ता 918 33  
प्रत्यादिष्ट  
अस्वीकृत 338 33  
निरस्त 338 39  
निर्देशित 347 18  
प्रत्यादेश  
चेतायनी 917 2  
प्रत्यादेशक  
प्रत्यादेशन कर्ता 338 43  
प्रत्यादेशन  
निरसन 338 9  
प्रत्यादेशन 338.11 ⇨  
प्रत्यादेशन करना  
प्रत्यादेशन करना 338.26 ⇨  
प्रत्यादेशन कर्ता  
प्रत्यादेशन कर्ता 338.43 ⇨  
प्रत्यादेशित  
प्रत्यादेशित 338 42 ⇨  
प्रत्यानयन  
पुनरानयन 1053 4  
प्रत्यानीत  
पुनरानीत 1053 15  
प्रत्याभूति  
गारटी 339 13

प्रत्यायित  
प्रत्यायिः 327.15 ⇨  
विश्वसनीय 340 13  
प्रत्यारंभतः  
नवत 532.24  
प्रत्यारोपण  
साधारणीकरण 352.14  
प्रत्यावर्तन  
पुनरागमन 1093 5  
पुनरावृत्ति 73 1  
प्रत्यावृत्ति 71 5  
प्रत्यावर्तनशील  
प्रत्यावर्ती 71 13  
प्रत्यावर्तित  
पुनरावर्तित 73 4  
प्रत्यावर्तित होना  
प्रत्यावर्तित होना 718 ⇨  
प्रत्यावर्ती  
प्रत्यावर्ती 71 13 ⇨  
प्रत्यावाहन  
प्रत्यावाहन 1055 4 ⇨  
प्रत्यावाहित  
प्रत्यावाहित 1055.15 ⇨  
प्रत्यावाहित करना  
वापस रँगाना 1055 9  
प्रत्यावृत्ति  
प्रत्यावृत्ति 71 5 ⇨  
प्रत्यावृत्ति (दे.)  
पुनरावृत्ति 73 1  
प्रत्याशा  
आशा 375 1  
प्रत्याशा 375.5 ⇨  
प्रत्याशा कर्ता  
प्रत्याशी 375 10  
प्रत्याशातीत  
प्रत्याशातीत 944 9 ⇨  
प्रत्याशानुकूल  
प्रत्याशित 941 8  
प्रत्याशानुकूलता  
प्रत्याशानुकूलता 941 3 ⇨  
प्रत्याशित  
प्रतीक्षित 1057 7  
प्रत्याशित 941.8 ⇨  
प्रत्याशित 375 9 ⇨  
प्रत्याशिततः  
प्रत्याशितत 941.12 ⇨  
प्रत्याशितता  
प्रत्याशानुकूलता 941.3  
प्रत्याशितता 375.6 ⇨  
प्रत्याशिता  
पद आवेदकता 653 4  
प्रत्याशी  
निर्वाचन प्रत्याशी 888 10  
पद आवेदक 653.31  
प्रत्याशी 375 10 ⇨  
प्रत्याशी होना  
निर्वाचन लड़ना 888 29



न्यासत्र	प्रत्युत्पन्न मतिव्य	प्रथम कारक	प्रथम सप्ताह
आसन्न 67 10	प्रत्युत्पन्न मति 301.4	कर्ता कारक 425 21	स्वायंभुव मनु 788.6
त्याह	प्रत्युद्गमन	प्रथम काल	प्रथम स्त्री
प्रति दिन 73 8	अभ्युद्गमन 1059 10	सृष्टि काल 529 2	आदनः पत्नी 791.7
त्याहृत	प्रत्युद्गमन	प्रथम गायक	प्रथम स्त्री 236.4 ⇨
अस्वीकृत 338 33	टिप्पा उछालन 105 8	प्रथम गायक 460.32 ⇨	होवा 236 5
निवारित 920 17	प्रत्युद्गमनशील	प्रथमज	प्रथम स्त्री पुरुषः मान्यता सूची
त्याहरण	उछलनशील 1052 23	ब्रह्म 764 24	प्रथम स्त्री पुरुषः मान्यता सूची 236.2 ⇨
पुनरानयन 1053 4	प्रत्युद्गमन्य	प्रथमतः	प्रथम स्थान
प्रतिकर्षण 1051 11	उछलनशील 1052 23	आरभत 994 21	प्रथम स्थान 707.4 ⇨
प्रत्यावाहन 1055 4	प्रत्युद्गमन्यता	पहले पहल 72.7	प्रथम स्थान पर होना
सिकुडन 980 10	टिप्पाशीलता 1052 9	प्रथमतः 505 38 ⇨	प्रथम स्थान पर होना 707.7 ⇨
त्याहार	प्रत्युपकार	प्रथमता	प्रथम स्थानीय
नेपथ्य पूर्वर्ग सूची 468 18	प्रतिदान 641 7	प्रथम स्थान 707 4	प्रथम स्थानीय 707.11 ⇨
पीछे हटना कर्म 914 6	प्रत्युपकार 832 3 ⇨	प्रधानता 852 3	प्रथमा कण
पुनरानयन 1053.4	प्रत्युपकार कर्ता	प्रथम देयता	ऐल्फा कण 78 13
प्रतिकर्षण 1051 11	प्रत्युपकारी 832 11	प्रथम देयता 634.9 ⇨	प्रथमाक्षर
प्रथमाक्षरी शब्द 980 7	प्रत्युपकारी	प्रथम देवता	शब्दः प्रथम अक्षर 410.3
योगाग सूची 756 14	प्रत्युपकारी 832 11 ⇨	भव 767 28	प्रथमाक्षरी नाम
त्याहृत	प्रत्युपहार	शिव 767 1	प्रथमाक्षरी नाम 980.8 ⇨
प्रत्यावाहित 1055 15	प्रत्युपहार 640.5 ⇨	प्रथम नागरिक	प्रथमाक्षरी शब्द
त्याहृत करना	प्रत्युष	राष्ट्रपति 882 2	प्रथमाक्षरी शब्द 980.7 ⇨
वापस मैंगाना 1055 9	आठ वसु सूची 777 8	प्रथम परिचय	प्रथमाधिकार
न्याहृति	प्रभात काल 47 4	नव परिचितता 704 8	प्रधानता 852 3
प्रत्यावाहन 1055 4	प्रत्युष काल	प्रथम पाठ	प्रथमाधिकारी
न्याहृत	प्रभात काल 47 4	आरंभिक ज्ञान 994 5	प्रधान 852 10
पुनरानीत 1053.15	प्रत्युषा	प्रथम पुरस्कार	प्रथमार्थ
प्रत्याहन	प्रभात काल 47 4	प्रथम पुरस्कार 857 3 ⇨	पूर्वार्थ 447 11
प्रति दिन 73 8	प्रत्येक	प्रथम पुरुष	प्रथमाश्रम
प्रत्युक्त	प्रत्येक 940.9 ⇨	आदन 791 6	ब्रह्मचर्य आश्रम 234 1
उत्तरित 334 12	प्रथन	प्रथम पुरुष 236 13 ⇨	प्रथमेतर
प्रत्युक्ति	प्रक्षेपण 1052 2	मै 316 20	दूसरा [दूसरी] 948 86
उत्तर 334 1	प्रथम	राष्ट्रपति 882 2	प्रथमोण (प्र)
प्रत्युच्छल	अग्र 994 18	वश पवर्तक 727 7	ऐल्फा कण 78 13
टिप्पा 1052.10	अग्रत 994 22	प्रथम पुरुषः मान्यता सूची	प्रथा
प्रत्युच्छालन	आगे आगे 1096.14	प्रथम पुरुषः मान्यता सूची 236 14 ⇨	धर्म कर्म 747 1
टिप्पा उछालन 1052 8	आरभ मे 994 20	प्रथम पूर्वज	धर्म विधि 747 3
प्रत्युत्	आरंभिक 994 16	वंश प्रवर्तक 727 7	परपरा 795.1
बल्कि 507 18	उत्तम 313 13	प्रथम प्रयोग	परिपाटी 514 9
प्रत्युत्कर्ष	पहला [पहली] 948 85	प्रथम प्रयोग 994.6 ⇨	प्रथा 795 9 ⇨
एटीक्लाइमैक्स 463.30	पहले पहल 72 7	प्रथम प्रवेश	प्रथा (दे.)
प्रत्युत्क्षेपण	पूर्व काल मे 60 18	प्रवेशोत्सव 1094 5	संस्कार 798.1
टिप्पा उछालन 1052 8	प्रथमतः 505 38	प्रथम प्रस्तुति	प्रथा उन्मूलक
प्रत्युत्क्षेपण करना	प्रथम स्थानीय 707 11	प्रीमियर शो 468.6	प्रथा उन्मूलक 795.10 ⇨
टिप्पा खिलाना 1052 16	प्रधान 852 10	प्रथम मानव	प्रथाक्रम
प्रत्युत्तर	प्रथम अक्षर क्रम	मनु 788.1	प्रथाक्रम 991.11 ⇨
अभिवादन उत्तर 1060 22	अकारादि क्रम 991 5	प्रथम मुसलमान स्त्री	प्रथा क्रम
प्रतिक्रिया 504.4	प्रथम आक्रमण	खदीजा 791 14	प्रथाक्रम 991 11
प्रतिशोध 873.2	प्रथम आक्रमण 914.6 ⇨	प्रथम यौवन	प्रथागत
प्रत्युत्थान	प्रथम आदित्य	नययौवन 231 1	परिपाटी अनुकूल 514 18
अभ्युद्गमन 1059.10	मित्र 773 42	प्रथम रात्र	प्रथागत 795.15 ⇨
मृतक पुनरुज्जीवन 250 9	प्रथम आना	पूर्व रात्र 48 10	प्रथानुकूल
प्रत्युत्पन्न	प्रथम स्थान पर होना 707.7	प्रथम रूप	पारंपरिक 795.13
पुनरुत्पन्न 546 11	प्रथमक	आद्य प्रारूप 520.9	प्रथानुकूलतः
प्रत्युत्पन्न मति	प्रधान 852.10	प्रथम वय	प्रधानुसारतः 795.18
प्रत्युत्पन्न मति 301.4 ⇨	प्रथम करण	बाल अवस्था 230.21	प्रधानुसारतः
प्रत्युत्पन्नमति	प्रथम करण 505.7 ⇨	प्रथम वर्षा दिन	प्रधानुसारतः 795.18 ⇨
प्रत्युत्पन्नमति 301.24 ⇨		प्रथम वर्षा दिन 54.3 ⇨	

## प्रथा विपरीत

### प्रथा विपरीत

प्रथा विपरीत 795.16 ⇨

### प्रथा समष्टि

धर्म 735.1

### प्रयोग (प्र)

प्रोटोन 78.17

### प्रथोन्मूलक

प्रथा उन्मूलक 795.10

### प्रदक्षिण

अनुघटी 1033.21

कल्याणकारी 710.21

### प्रदक्षिणा

अनुघटी परिक्रमा 1033.5

तीर्थ परिक्रमा 1089.4

### प्रदक्षिणा मार्ग

परिक्रमा मार्ग 1063.25

### प्रदक्षिणाशील

अनुघटी 1033.21

### प्रदक्षिणा

तीर्थ परिक्रमा 1089.4

### प्रदत्त

प्रदत्त 638.14 ⇨

### प्रदत्त अधिकार

प्रदत्त अधिकार 897.7 ⇨

### प्रदत्त अधिकार पत्र

प्रदत्त अधिकार पत्र 897.8 ⇨

### प्रदत्त नाम

नामकरण नाम 315.10

### प्रदत्त रोग

संचारी रोग 183.5

### प्रदर्श

प्रदर्श 876.20 ⇨

### प्रदर्शक

पर्यटन प्रदर्शक 1090.18

प्रदर्शक 285.44 ⇨

प्रशिक्षक 323.21

प्रोजेक्शन कर्ता 470.7

फ़िल्म प्रदर्शक 470.6

विवेचक 427.31

### प्रदर्शन

जन प्रदर्शन 902.10

परिकल्प प्रदर्शन 520.7

परेड 1083.8

प्रतिपादन 328.1

प्रदर्शन 285.1 ⇨

प्रमाणन 327.3

विवेचन 427.14

वृत्तांत 449.14

शो 468.5

### प्रदर्शन खेल

प्रदर्शन खेल 473.1 ⇨

### प्रदर्शनालय

प्रदर्शनालय 689.17 ⇨

### प्रदर्शनी

प्रदर्शनालय 869.17

मेला बाज़ार 663.10

विक्रय प्रदर्शनी 663.9

### प्रदर्शनीय

प्रदर्शनीय 285.43 ⇨

### प्रदर्शित

प्रतिपादित 326.14

प्रदर्शित 285.42 ⇨

प्रमाणित 327.9

सिद्ध 877.22

### प्रदर्शित उपसंहार

निदर्श 328.3

### प्रदर्शित करना

प्रदर्शित करना 285.36 ⇨

### प्रदर्शित्र (प्र)

प्रोजेक्टर 470.8

### प्रदर्शी

प्रदर्शक 285.44

### प्रदर्श्य

प्रदर्शनीय 285.43

### प्रवहन

दहन 108.1

### प्रदाता

प्रदाता 638.15 ⇨

### प्रदान

उपहार प्रदान 640.1

प्रदान 638.1 ⇨

### प्रदान करना

प्रदान करना 638.6 ⇨

### प्रवाह

दहन 108.1

बर्न 167.8

### प्रदिष्ट

आज्ञापित 347.14

### प्रदीप

दीपक 285.13

### प्रदीपक

आलोकक 285.46

दीपक 285.13

प्रकाश उपकरण 285.6

### प्रदीपन

दीप प्रज्वलन 285.4

भावोदीपन 358.8

### प्रदीपिका

व्याख्या पुस्तक 446.31

### प्रदीप्त

अग्न्याधानित 107.13

आलोकित 285.45

उदीप्त (अग्नि) 107.14

दीप्त 287.34

### प्रदीप्त करना

दीप जलाना 285.40

### प्रदीप्ता

अग्नि जिह्वा सूची 106.10

### प्रदीप्ति

तेजस्विता 839.5

### प्रदुष्ट

खोटा [खोटी] 98.13

### प्रदूषक

प्रदूषक 217.9 ⇨

### प्रदूषण

प्रदूषण 217.3 ⇨

### प्रदूषण होना

प्रदूषित होना 217.5

### प्रदूषित

प्रदूषित 217.8 ⇨

मलिन 217.6

### प्रदूषितता

मलिनता 217.1

### प्रदूषित होना

प्रदूषित होना 217.5 ⇨

### प्रदेय

देय 634.27

### प्रदेश

क्षेत्र 34.1

प्रदेश 34.9 ⇨

स्थान 33.1

### प्रदेश निरपेक्षता

राष्ट्रवाद 884.27

### प्रदेश प्रशासक

राज्यपाल 891.3

### प्रदेशवाद

प्रातवाद 884.29

### प्रदेश स्तरीय

प्रदेश स्तरीय 35.4 ⇨

### प्रदेशीय

क्षेत्रीय 34.14

प्रदेश स्तरीय 35.4

प्रदेशीय 34.16 ⇨

### प्रदेशी

धर्म उपदेशक 742.22

### प्रदोलन गति माप

प्रदोलन गति माप 958.36 ⇨

### प्रदोलन प्रति मिनट

प्रदोलन गति माप 958.36

### प्रदोलन प्रति सेकंड

प्रदोलन गति माप 958.36

### प्रदोल मापी

प्रदोल मापी 958.37 ⇨

### प्रदोल मापी

प्रदोल मापी 958.37

### प्रदोलित

झुलता [झुलती] 1034.21

### प्रदोलित्र

दोलित्र 1037.9

### प्रदोष

पूर्व रात्र 48.10

रात. पहला पहर 49.7

### प्रदोष काल

सायंकाल 47.13

### प्रद्युम्न

अति बलिष्ठ 160.11

चतुर्व्यूह विष्णु: अंश सूची 768.15

प्रद्युम्न 771.73 ⇨

विष्णु 768.1

### प्रद्युम्न (पुनर्जन्म)

कामदेव 773.12

### प्रद्युम्न: पुत्र

अनिरुद्ध 771.34

### प्रद्योत

यक्ष सूची 779.3

सूर्य 8.1

### प्रद्योतन

अग्न्याधान 107.1

आलोकन 285.2

### प्रद्वय

तरल 80.5

### प्रद्वय

एक घाव 484.2

### प्रद्वयी

दोकाक 484.15

### प्रद्वार

द्वारात्र चबूतरा 610.10

### प्रद्वेष

ईर्ष्यालुता 709.2

### प्रधान

अध्यक्ष 652.14

उत्तम 813.13

उत्तमता: उपमान सूची 313.4

केंद्रीय सत्ता विषयक 899.23

नेता 346.2

प्रधान 764.23 ⇨

प्रधान 852.10 ⇨

प्रधान लक्षणयुक्त 317.25

मुखिया 852.7

राजा: मंत्री 889.20

सर्वोच्च सत्ताधारी 899.5

सेनापति 935.1

### प्रधान अध्यापक

प्रधान अध्यापक 323.15 ⇨

### प्रधान अभिनेता

सूत्रधार 468.13

### प्रधान कथा

मुख्य कथा 466.10

### प्रधान कर्मचारी

प्रधान कर्मचारी 652.29 ⇨

### प्रधानका: (प्र)

वानर 127.89

### प्रधान क्राज़ी

प्रधान क्राज़ी 874.20 ⇨

### प्रधान कार्यालय

प्रधान कार्यालय 654.5 ⇨

### प्रधानता

प्रधानता 852.3 ⇨

### प्रधान दानव

विप्रयिप्ति 783.15

### प्रधान देवता

प्रधान देवता 772.21 ⇨

### प्रधान धर्मोपदेशक

मीर वाइज़ 744.26

### प्रधान नट

सूत्रधार 468.13

### प्रधान न्यायाधीश

मुख्य न्यायमूर्ति 874.18

प्रधान पत्नी प्रधान पत्नी 803.7 ⇐	प्रधि नेमि 1077.8 परिधि 972.4	प्रपितामह पिता परदादा 722 7	प्रबंध कारिणी प्रबंध समिति 692 23
प्रधान पात्र नायक 467.5	प्रध्यान ध्यान 331.1	प्रपितामही परदादी 722 8	प्रबंध काव्य प्रबंध काव्य 451 11 ⇐
प्रधान पात्रा नायिका 467 10	प्रन प्रतिज्ञा 339 17	प्रपीडन उत्पीडन 391.10 मर्दन 911 1	मसनवी 452 25 महाकाव्य 451 12
प्रधान पुरुष शासन अध्यक्ष 882.4 शिय 767 1	प्रपंच खटराग 747 4 छल 827 7	प्रपुंज राशि 686 2	प्रबंध काव्यकार प्रबंध कवि 448 19
प्रधान प्रबंधक महा प्रबंधक 655.10	प्रपंच छल 827 7 दिखावा 825 1 पाखंड 825.2	प्रपूरक आपूर्ति कर्ता 634.34 भरने वाला 1004 11	प्रबंधन आबद्धन 1013 1 प्रबंधन 655 6 ⇐
प्रधान बोल ताल बोल प्रधान बोल 458.33	प्रपंच प्रसार 979 3 माया 762 9 राशि 686 2	प्रपूरित तुंसा [तुंसी] 1004 14	प्रबंधन करना प्रबंधन करना 655.15 ⇐
प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री 889.21 ⇐	प्रपंचहीन पाखंडहीन 822 31	प्रपूर्ण आपूर्त 634 33	प्रबंध संपादक संपादक सूची 445 16
प्रधान मंत्री (दे.) शासन अध्यक्ष 882 4	प्रपंचहीन पाखंडहीन 822 31	प्रपूर्ति आपूर्ति 634 14	प्रबंध समिति प्रबंध समिति 692 23 ⇐
प्रधानमंत्री (प्रचलित) प्रधान मंत्री 889 21	प्रपंचित प्रसारित 979 17	प्रपौत्र परपोता 722 16	प्रबंधहीन अव्यवस्थित 894 9
प्रधान रस प्रधान रस 455 2 ⇐	प्रपंची धर्म पाखंडी 825 4	प्रपौत्री परपोती 722 17	प्रबंधहीनता अव्यवस्थितता 894 5
प्रधान रानी राजा प्रधान पत्नी 882 18	प्रपतन पतन 1031 1	प्रप्लाग्मा (प्र) प्लाग्मा 129 5	प्रबंधालय प्रबंधालय 654 11 ⇐
प्रधान लक्षणयुक्त प्रधान लक्षणयुक्त 317 25 ⇐	प्रपतनशील निर्झरणील 21 38	प्रफुल्ल अति आनंदित 382 20 आनंदित 382 17 उत्साहपूर्ण 491 9 पुष्टित 118 14 प्रसन्न 381 7 प्रस्फुटित 119 10 विकसित 534 14 स्फूर्त 491 13	प्रबंधित प्रबंधित 655 23 ⇐
प्रधान व्यक्ति प्रधान व्यक्ति 852 4 ⇐	प्रपतित निर्झरित 21 37 पतित 1031 24	प्रफुल्लता अति आनंद 382 4 प्रस्फुटितता 119 2 स्फूर्ति 491 2	प्रबंधीय प्रबंधीय 655 22 ⇐
प्रधान व्यवस्थापक महा प्रबंधक 655 10	प्रपथ चौड़ी सड़क 1063 35	प्रफुल्लता अति आनंद 382 4 प्रस्फुटितता 119 2 स्फूर्ति 491 2	प्रबल अत्यधिक 944 7 अदम्य 519 28 दुनिवार्य 919 10 प्रबल 487 24 ⇐ बलिष्ठ 160 10 सक्षम 487 25
प्रधान व्यापारी व्यापार अध्यक्ष 657 3	प्रपद घरण 150 9	प्रफुल्लता अति आनंद 382 4 प्रस्फुटितता 119 2 स्फूर्ति 491 2	प्रबल आक्रमण प्रबल आक्रमण 914 7 ⇐
प्रधान रतनी वानर 127 89	प्रपदन प्रवेशन 1094 3	प्रबंध निबध 449 15 प्रबंध 655.5 ⇐ व्यवस्था 893 5 शासन 890 1 शोध लेख 449 18	प्रबलता अदम्यता 519 12 प्रबलता 487 6 ⇐ शक्ति 487 1
प्रधान स्वर वादी स्वर 459 21	प्रपन्न कष्टग्रस्त 392 21 दयनीय 834 16 प्राप्त 837 8	प्रबंध निबध 449 15 प्रबंध 655.5 ⇐ व्यवस्था 893 5 शासन 890 1 शोध लेख 449 18	प्रबलता खोना प्रबल न रहना 488 7 प्रबल न रहना प्रबल न रहना 488.7 ⇐
प्रधानाचार्य महाचार्य 790.3	प्रपा कूप 19.3 पशु पानी का हीज 18.16	प्रबंध निबध 449 15 प्रबंध 655.5 ⇐ व्यवस्था 893 5 शासन 890 1 शोध लेख 449 18	प्रबल होना प्रबल होना 487.13 ⇐
प्रधानाध्यापक महाचार्य 790.3	प्रपात खड़ा तट 25.16 निर्झर 21.8 वर्षा 54.5	प्रबंध निबध 449 15 प्रबंध 655.5 ⇐ व्यवस्था 893 5 शासन 890 1 शोध लेख 449 18	प्रबलीकरण दुर्गीकरण 907.12
प्रधानामात्य प्रधान मंत्री 889 21	प्रपातिका निर्झर 21 8	प्रबंध निबध 449 15 प्रबंध 655.5 ⇐ व्यवस्था 893 5 शासन 890 1 शोध लेख 449 18	प्रबाधक निवारक 920 18
प्रधानी वानर 127 89	प्रपाथ सड़क 1063.33	प्रबंध निबध 449 15 प्रबंध 655.5 ⇐ व्यवस्था 893 5 शासन 890 1 शोध लेख 449 18	प्रबाधन रोधन 920.5
प्रधानीय केंद्रीय सत्ता विषयक 899 23	प्रपिता दादा 722.5	प्रबंध निबध 449 15 प्रबंध 655.5 ⇐ व्यवस्था 893 5 शासन 890 1 शोध लेख 449 18	प्रबाल नव पल्लव 115.2
प्रधानोत्तम प्रधान मंत्री 889.21 महायोद्धा 934.20 महावीर 396 8 राष्ट्रपति 882.2 शासन अध्यक्ष 882.4	प्रपितामह परदादा 722.7 विष्णु 788.1	प्रबंध निबध 449 15 प्रबंध 655.5 ⇐ व्यवस्था 893 5 शासन 890 1 शोध लेख 449 18	प्रबाहु अग्रहस्त 149 8
प्रधार प्रधार 1032.8 ⇐		प्रबंध निबध 449 15 प्रबंध 655.5 ⇐ व्यवस्था 893 5 शासन 890 1 शोध लेख 449 18	प्रबुद्ध जागरूक 301.34
प्रधार फेंकना प्रधार फेंकना 1032.24 ⇐			
प्रधावन प्रशासन 220.1			

## प्रबुद्ध होना

जाग्रत 265 7  
ज्ञानी 305 30  
बोध प्राप्त 301 29  
वयस्क 229 21  
विद्वान् 319 8

## प्रबुद्ध होना

बोध होना 301 17

## प्रबुध

महर्षि 789.4

## प्रबुधन

जागरण 265 2

## प्रबोध

जागरण 265 2  
जाग्रत अवस्था 265 1  
बोध प्राप्ति 301 11

## प्रबोधक

उज्जागरक 265 8  
प्रभाती गायक 460 35  
बोध प्रदाता 301 30

## प्रबोधन

उज्जागरण 265 3  
बोध प्रदान 301 10

## प्रबोधित

लब्धचेता 263 13

## प्रबोधिनी

व्याख्या पुस्तक 446 31

## प्रभञ्जन

आँधी 85 5  
आँधी पानी 85 7  
तूफान 85 8  
वायु 85 1  
शिव 767 1

## प्रभय

उत्पत्ति 546 5  
जन्म 248 1

## प्रभयिष्णु

प्रतापशाली 849 19  
प्रभावशाली 511 17  
सत्ताधारी 899 3

## प्रभयिष्णुता

प्रभावशालिता 511 2

## प्रभञ्जन

सहजन 13 24

## प्रभा

अप्सरा सूची 782 3  
कुबेर नगर अलकापुरी 779.8  
दीप्ति 287 16  
नवशक्ति सूची 776 19  
प्रकाश 287 1  
प्रकाश किरण 288 1

## प्रभाकर

आलोकक 285 46  
घट्टमा 8 2  
शिव 767.1  
सूर्य 8.1

## प्रभाग

प्रभाग 937.6 ⇌  
भिन्न संख्या 949 18

## प्रभागीय

विभागीय 937 13

## प्रभात

प्रभात काल 47 4  
प्रभात (दे.)  
दिन पहला पहर 49 3  
सूर्योदय 5 8

## प्रभात काल

प्रभात काल 47 4 ⇌

## प्रभात कालीन

प्रभात कालीन 47 19 ⇌

## प्रभात फेरी

प्रभात फेरी 1088 9 ⇌

## प्रभात में

प्रभात में 47 21 ⇌

## प्रभात होना

प्रभात होना 47 17 ⇌

## प्रभाती

प्रभाती 451 28 ⇌

## प्रभाती गायक

प्रभाती गायक 460.35 ⇌

## प्रभातीय

प्रभात कालीन 47 19

## प्रभा मंडल

तेजोमंडल 839 7  
प्रकाश मंडल 287 3

## प्रभा मापी

भा मापी 958 54

## प्रभार

कार्य भार 653 9

## प्रभारी

कार्य भारी 653 10

## प्रभाय

दाब 989 4  
परिणाम 510 1  
प्रताप 849 5

प्रभाव 511 1 ⇌

वश 899 13

वैभव 226 5

शक्ति 487 1

सगति प्रभाव 696 5

## प्रभाष उत्तरना

प्रभाव कम होना 511.11

## प्रभाव कम होना

प्रभाव कम होना 511.11 ⇌

## प्रभावकारी

प्रभावशाली 511 17

## प्रभाव क्षेत्र

प्रताप क्षेत्र 849 6

## प्रभाव जन्मना

प्रभाव होना 511 7

## प्रभाव डालना

प्रभावित करना 511.9

## प्रभावती

असुर स्त्री सूची 783 9

## प्रभाव न छोड़ना

प्रभावित न करना 511.10

## प्रभाव न डालना

प्रभावित न करना 511 10

## प्रभाव पड़ना

प्रभावित होना 511 8

## प्रभावपूर्ण

प्रभावशाली 511 17

## प्रभाव मंदक

प्रभाव मंदक 511.21 ⇌

## प्रभाव मंदन

प्रभाव मंदन 511.5 ⇌

## प्रभाव में आना

प्रभावित होना 511 8

## प्रभावयसा

प्रभावशालिता 511 2

## प्रभावयान

प्रतापशाली 849 19

## प्रभावशालिता

प्रभावशालिता 511 2 ⇌

## प्रभावशाली

प्रतापशाली 849 19

प्रभावशाली 511.17 ⇌

भय्यदृश्यतापूर्ण 402 4

## प्रभावशील

प्रभावशील 511.16 ⇌

## प्रभावशीलता

प्रभावशीलता 511 3 ⇌

## प्रभावहीन

प्रभावहीन 511 18 ⇌

## प्रभावहीनता

प्रभावहीनता 511 4 ⇌

## प्रभाव होना

प्रभाव होना 511 7 ⇌

## प्रभावान

आलोकित 285.45

## प्रभावित

गहन प्रभावित 511.15

प्रभावित 511 13 ⇌

## प्रभावित करना

गहन प्रभाव छोड़ना 511 12

प्रभावित करना 511.9 ⇌

## प्रभावित न करना

प्रभावित न करना 511.10 ⇌

## प्रभावित होना

प्रभावित होना 511.8 ⇌

## प्रभावी

प्रभावशाली 511 17

## प्रभावी होना

प्रभावित करना 511 9

## प्रभावोत्पादक

प्रभावशाली 511 17

## प्रभास

आठ वसु सूची 777 8

दीप्ति 287 16

## प्रभासक

प्रकाश उपकरण 285 6

## प्रभासन

आलोकन 285.2

## प्रभास मापी

प्रभास मापी 958.53 ⇌

## प्रभासित

आलोकित 285.45

## प्रभासित करना

आलोकित करना 285 39

## प्रभाहीन

धुंधला [धुंधली] 286 17

## प्रभु

इंद्र 773.5

ईश्वर 764 1

पारा 94.9

प्रधान व्यक्ति 852 4

ब्रह्मा 766 1

महा विद्वान् 319 3

राजा 882 6

विष्णु 768 1

सत्ताधारी 899 3

स्वामी 621 2

## प्रभुता

आधिपत्य 899 8

प्रधानता 852.3

प्रभु सत्ता 899 2

महत्त्व 852 1

वैभव 226 5

सत्ता 899 1

## प्रभुता

प्रभु सत्ता 899 2

सत्ता 899 1

## प्रभुत्वाधिकार

सत्ता 899.1

## प्रभु दर्शन

ईश्वर दर्शन 749 36

## प्रभु भक्त

सत्तानिष्ठ 826 11

## प्रभुभक्ति

सत्ता निष्ठा 826 4

## प्रभु शक्ति

प्रभु सत्ता 899 2

## प्रभु सत्ता

प्रभु सत्ता 899 2 ⇌

## प्रभुत

अत्यधिक 944 7

उत्पन्न 546 9

घटित 75.11

जन्मा [जन्मी] 248 10

व्यतीत 74.3

## प्रभुतता

अत्यधिकता 944.2

## प्रभुति

अत्यधिकता 944.2

## प्रभुष्णु

प्रभावशील 511.16

सक्षम 487.25

## प्रभुति

इत्यादि 945.12

## प्रभेद

असामान्यता 312.1

विदरण 544 2	प्रमाण कोटि	प्रमाण्य मत	पहला [पहली] 948 85
प्रभेदक	कोटि 936 1	पूर्व पक्ष 324.11	प्रतिष्ठित 849 15
विभाजक 699 18	प्रमाणज्ञा	प्रमाता	प्रधान 852 10
प्रमग्न	वाद विवाद कुशल 324 26	विशेषज्ञ 305 36	प्रधान व्यक्ति 852 4
ध्यानमग्न 331 11	प्रमाणतः	प्रमातामह	प्रमुख अभिनेता
प्रमति	प्रमाणत 327.16 ⇨	परनाना 722 32	प्रमुख अभिनेता 464 7 ⇨
प्रतिभाशाली 301 27	प्रमाणदृष्ट	प्रमातामहः पिता	प्रमुख आहार
प्रमत्त	शास्त्र संगत 318 7	लकड़ नाना 722 34	मुख्य आहार 199 5
असावधान 498 6	प्रमाणन	प्रमातामही	प्रमुख दिवस
मदोन्मत्त 211 15	प्रमाणन	परनानी 722 33	राष्ट्र जयंती 58 10
प्रमथ	प्रमाणन 327.3 ⇨	प्रमात्रा	प्रमुख नाग
घोड़ा 127.35	सत्यापन 327 5	मात्रा 946 3	नागराज 778 17
प्रमथन	प्रमाणन करना 327 8	प्रमाथ	प्रमुख योद्धा
उत्पीड़न 391 10	प्रमाण पत्र	मर्दन 911 1	अप्रयोद्धा 934 17
प्रमथालय	प्रमाण पत्र 322.32 ⇨	मसलाई 541 2	प्रमुख व्यक्ति
नरक 259 6	सत्यापन पत्र 327 6	यघ 251 3	प्रधान व्यक्ति 852 4
प्रमथित	प्रमाण पुरुष	प्रमाथी	प्रमुख
उत्पीड़ित 391 28	विवाचक पद्य 877 7	उत्पीड़क 391 29	मूर्च्छित 264 23
मर्दित 911 10	प्रमाणपूर्वक	बलात्कारी 237 20	प्रमुखधन
रूँदा [रूँदी] 541 13	प्रमाणत 327 16	मारने वाला 251 26	आलुभन 359 7
प्रमथी	प्रमाण वाक्य	प्रमाद	प्रमुद
मर्दन कर्ता 911 11	न्याय वाक्य 424 17	असावधानी 498 1	अति आनंदित 382 20
प्रमथेश्वर	प्रमाणवाद	उन्माद 354 4	प्रमुदन
शिव 767 1	नास्तिकतावाद 760 14	चेतनाहीनता 264 2	मनोरजन कर्म 469 2
प्रमद	प्रमाणवादी	तल्लीनता 331 6	प्रमुदित
दर्पी 858 13	विज्ञानी 307 12	ध्यानहीनता 331 3	आनंदित 382 17
पागल 354 24	प्रमाण सिद्ध	मद 211 1	प्रमुचित
प्रमद [प्रमदा]	प्रमाणित 327 9	विस्मृति 357 4	चुरा [चुरी] 864 51
मदोन्मत्त 211 15	प्रमाण सूची	प्रमादहीन	प्रमुड़
मनोरजनप्रिय 469 13	प्रमाण सूची 327 2 ⇨	अमदोन्मत्त 211 16	भ्रष्टही 302 10
प्रमद वन	प्रमाण स्वरूप	प्रमादी	प्रमेय
क्रीड़ा उपवन 12 14	प्रमाणत 327 16	असावधान 498 6	गणितीय समीकरण 952.5
प्रमदा	प्रामाणिक 327.11	उन्मत्त 354 22	ज्यामितीय प्रमेय 956 3
युवती 231 9	प्रमाणहीन	ध्यानहीन 331 13	पूर्व पक्ष 324.11
सुंदर स्त्री 157 2	विज्ञान विरुद्ध 307 14	पागल 354 24	प्रमेह
प्रमर्दित	प्रमाणहीनता	मदोन्मत्त 211 15	प्रमेह 163.33 ⇨
मर्दित 911 10	अवैज्ञानिकता 307 3	प्रमार्जन	प्रमोक्ष
रूँदा [रूँदी] 541.13	प्रमाणातीत	मार्जन 218 8	प्रक्षेप 1052 1
प्रमा	स्वतः प्रमाणित 327 10	प्रमित	प्रमोचन
प्रत्यक्ष अनुभूति 263 3	प्रमाणाधिक	मापित 958.57	उन्मोचन 1015 1
प्रत्यक्ष ज्ञान 305 5	अत्यधिक 944 7	सस्तीम 1001 33	प्रमोद
माप 958.1	आकार से बड़ा 961 18	प्रमिताह्व	अति आनंद 382 4
वैज्ञानिकता 307 2	प्रमाणिकता	डायटिंग 182 6	आनंद 382.1
प्रमाण	तथ्यात्मकता 820.15	प्रमिति	मनोरजन 469.1
उदाहरण 309.6	प्रमाणित	माप 958 1	विनोद 385 1
तथ्य 820.14	प्रमाणित 327.9 ⇨	प्रमीला	प्रमोदक
धर्म उपदेश 742 5	सत्यापित 327.12	अर्जुन पत्नी सूची 771.38	प्रसन्न कर्ता 381 8
निदर्श 328.3	सिद्ध 877.22	तद्वा 266 8	प्रसन्नताप्रद 381 9
पर्यंत 39.12	प्रमाणित करना	प्रमीलित	प्रमोद कर
प्रमाण 878.21 ⇨	प्रमाणित करना 327.7 ⇨	मुकुलित 120 8	मनोरजन कर 647.23
प्रमाण 327.1 ⇨	सिद्ध करना 877 18	प्रमीली (प्र)	प्रमोद वन
माप 958.1	प्रमाणितता	मारक्रीन 212 8	क्रीड़ा उपवन 12 14
वाद सिद्धि 877.1	वाद सिद्धि 877.1	प्रमुक्त	प्रमोदी
सत्य 820.1	प्रमाणित वाद	प्रक्षेपित 1052.19	प्रसन्न कर्ता 381.8
प्रमाण कथन	सिद्ध वाद 877.2	प्रमुख	प्रमोशन (ऑ)
प्रतिपादन 326.1	प्रमाणीकरण	अध्याय आरम्भ 447.3	पदोन्नति 653.12
प्रमाण कुशल	सत्यापन 327.5	इत्यादि 945.12	प्रमोच
वाद विवाद कुशल 324.26		गीत. आरंभिक भाग 451.24	घोरी: घटना 864 2

## प्रमोह

**प्रमोह**  
चेतनाहीनता 264 2  
**प्रम्लोधा**  
अप्सरा सूची 782 3  
**प्रयत्न**  
प्रयत्नशील 489.9  
सयमी 808 17  
**प्रयत्न**  
प्रयत्नित 489 8  
**प्रयत्न**  
प्रयत्न 489 1 ⇌  
प्रवृत्ति 502 1  
**प्रयत्न करना**  
प्रयत्न करना 489.5 ⇌  
**प्रयत्न कर्ता**  
प्रयत्नशील 489 9  
**प्रयत्नतः**  
प्रयत्नपूर्वक 489 11  
**प्रयत्न न करना**  
प्रयत्न न करना 490 6 ⇌  
**प्रयत्नपूर्वक**  
प्रयत्नपूर्वक 489 11 ⇌  
**प्रयत्नवान**  
प्रयत्नशील 489 9  
**प्रयत्नशील**  
प्रयत्नशील 489.9 ⇌  
**प्रयत्नहीन**  
अप्रयत्नशील 490 9  
**प्रयत्नहीनतः**  
अप्रयत्नतः 490 15  
**प्रयत्नहीनता**  
अप्रयत्न 490 1  
**प्रयत्नित**  
प्रयत्नित 489 8 ⇌  
**प्रयाग**  
इंद्र 773 5  
गंगा-यमुना सगम 20 13  
घोड़ा 127 35  
**प्रयागः बट**  
अक्षय वट 13 17  
**प्रयाण**  
गमन 1091 1  
प्रयाण 907 25 ⇌  
मार्च 1083 11  
मृत्यु 249 1  
यात्रा 1087.1  
युद्ध यात्रा 907 23  
**प्रयाण करना**  
प्रयाण करना 907 40 ⇌  
**प्रयाण कर्ता**  
प्रयाण कर्ता 907.49 ⇌  
**प्रयाण काल**  
अंतिम अवसर 70 7  
मृत्यु काल 249 10  
**प्रयाण गीत**  
युद्ध गीत 907 19  
**प्रयाण ध्वनि**  
प्रयाण ध्वनि 907.26 ⇌

**प्रयाण पटह**  
प्रयाण ध्वनि 907 26  
**प्रयाण संगीत**  
प्रयाण संगीत 907 17 ⇌  
**प्रयाणी**  
प्रयाण कर्ता 907 49  
**प्रयाग**  
माल कमी 656 4  
**प्रयास**  
प्रयत्न 489 1  
**प्रयासतः**  
प्रयत्नपूर्वक 489.11  
**प्रयासपूर्वक**  
प्रयत्नपूर्वक 489 11  
**प्रयासशील**  
प्रयत्नशील 489 9  
**प्रयासहीन**  
अपरिश्रमी 490.11  
अप्रयत्नशील 490 9  
**प्रयासहीनता**  
अप्रयत्न 490 1  
प्रारब्धयाद 260 4  
**प्रयासी**  
परिश्रमी 493 9  
प्रयत्नशील 489 9  
**प्रयुक्त**  
उपभुक्त 524 14  
**प्रयुक्ति**  
नव प्रयोग 307 6  
**प्रयुत**  
दस लाख 948 76  
सहित 1006 2  
**प्रयुक्तु**  
योद्धा 934 15  
**प्रयोक्त**  
उपभोक्ता 524 16  
प्रयोग कर्ता 307 20  
**प्रयोग**  
अभिमंत्रण 758 6  
उपभोग 524 1  
कार्यान्वयन 505 5  
नव प्रयोग 307.6  
प्रक्रिया 514.5  
व्यवहार 703 2  
शस्त्र प्रहार 918 7  
शो 468 5  
**प्रयोग करना**  
प्रयोग करना 307 10 ⇌  
**प्रयोग कर्ता**  
प्रयोग कर्ता 307.20 ⇌  
**प्रयोगनिपुण**  
प्रवीण 303 22  
**प्रयोग शाला**  
प्रयोग शाला 307.7 ⇌  
**प्रयोगशाला में जल हिमांक**  
जल हिमांक 103 16  
**प्रयोगात्मक**  
प्रयोगात्मक 307.19 ⇌

**प्रयोगी**  
प्रयोग कर्ता 307 20  
**प्रयोग्य**  
उपभोग्य 524.15  
**प्रयोजक**  
प्रवृत्त कर्ता 502 11  
संस्थापक 693 10  
**प्रयोजन**  
कथा फल 466 12  
प्रयोजन 508.1 ⇌  
**प्रयोजन (दे.)**  
कारण 507 3  
**प्रयोजनतः**  
प्रयोजनतः 508 11 ⇌  
**प्रयोजनपूर्ण**  
प्रयोजनपूर्ण 508.6 ⇌  
**प्रयोजन सिद्धि**  
सफलता 512 1  
**प्रयोजन से**  
कारणतः 507 7  
प्रयोजनतः 508 11  
**प्रयोजनहीन**  
प्रयोजनहीन 509 3 ⇌  
**प्रयोजनहीनतः**  
प्रयोजनहीनतः 509.5 ⇌  
**प्रयोजनहीनता**  
प्रयोजनहीनता 509 1 ⇌  
**प्रयोजन होना**  
प्रयोजन होना 508 5 ⇌  
**प्रयोजनार्थ**  
लक्षणाार्थ 426 5  
**प्रयोजनार्थी**  
प्रयोजनार्थी 508.7 ⇌  
**प्रयोजनी**  
प्रयोजनार्थी 508 7  
**प्रयोज्य**  
उपयोगी 524 18  
**प्ररुद्ध**  
उत्पन्न 546 9  
**प्ररूप**  
प्रारूप 520 8  
**प्ररोधक**  
रोचक 400 12  
**प्ररोधन**  
उत्प्रेरण 499 2  
**प्ररोधना**  
कथा सूचना 466 15  
पट समक्ष पूर्वग सूची 468 19  
प्ररोधना 468.23 ⇌  
प्रेरणा 499.1  
**प्ररोह**  
अकुर 113 1  
चढ़ान 988 3  
**प्ररोहण**  
अकुरण 117 1  
क्रलम लगाई 548 11  
**प्ररोही**  
उद्भिज्ज 111 7

**प्रलंफन**  
छलौंग 1086.10  
**प्रलंब**  
कंठहार 228.28  
जटा 112.17  
दानव सूची 783.13  
प्रलंबित 1024.10  
शाखा 114 10  
साहुल 559 52  
**प्रलंबक**  
प्रलंबक 1024.12 ⇌  
**प्रलंब कोण**  
समकोण 970 2  
**प्रलंबन**  
प्रलंबन 1024.1 ⇌  
**प्रलंबारि**  
बलराम 771 74  
**प्रलंबित**  
प्रलंबित 1024.10 ⇌  
**प्रलंबितता**  
प्रलंबितता 1024 2 ⇌  
**प्रलंबित होना**  
प्रलंबित होना 1024.8 ⇌  
**प्रलंबी [प्रलंबिनी]**  
प्रलंबित 1024 10  
**प्रलयंकर**  
पूर्ण परिवर्तनकारी 532 20  
प्रलयंकर 530.8 ⇌  
शिय 767.1  
**प्रलय**  
जल प्रलय 530 2  
नाश 531 1  
पूर्ण परिवर्तन 532 8  
प्रलय 530.1 ⇌  
महाक्रांति 903 10  
महा सकट 909 2  
मृत्यु 249 1  
**प्रलय आना**  
प्रलय होना 530 6  
**प्रलयकर**  
शिव 767 1  
**प्रलय करना**  
प्रलय करना 530.7 ⇌  
**प्रलय कर्ता**  
प्रलयंकर 530.8  
**प्रलयकारी**  
प्रलयंकर 530.8  
**प्रलय कालः मनु**  
वैवस्वत मनु 788.5  
**प्रलय कालीन अवतार**  
मत्स्य अवतार 769.32  
वराह अवतार 769.34  
**प्रलय कालीन पैराबर**  
नूह 791 15  
**प्रलयन**  
थिलयन \*21.26  
**प्रलय रात्रि**  
प्रलय रात्रि 530.3 ⇌

प्रलय वर्षा  
अति वर्षा 54 6  
प्रलय होना  
प्रलय होना 530.6 ⇨  
प्रलय्याग्नि  
प्रलय्याग्नि 106.3 ⇨  
प्रलययानल  
प्रलय्याग्नि 106 3  
प्रलययित  
नष्ट 531 7  
प्रललाट  
चौड़ा मस्तक 158 3  
प्रलयिता  
फसल काटने वाला 548 19  
प्रलयित्र  
चाकू छुरी 561 7  
प्रलाप  
प्रलाप 428 6 ⇨  
यिलाप 386 9  
प्रलाप करना  
प्रलाप करना 428 13 ⇨  
प्रलापी  
प्रलापी 428 24 ⇨  
बकवासी 428 26  
प्रलीन  
तल्लीन 331 14  
विलयित 21 41  
प्रलुब्ध  
लुब्ध 359 30  
प्रलुभन  
आलुभन 359 7  
प्रलेप  
आलेप 292 1  
मरहम 176 21  
प्रलेपक  
आलेपक 292.12  
प्रलेपन  
आलेपन 292 3  
प्रलेपित  
आलेपित 292 13  
प्रलोभ  
लोभ 359 6  
प्रलोभक  
प्रलोभक 359.32 ⇨  
प्रलोभन  
आलोभन 359 8  
दाप नीति 819.5  
प्रलोभन देना  
लुब्ध करना 359 16  
प्रलोभना (प्र)  
मनसिजा 352 5  
प्रलोभित  
लुब्ध 359.30  
प्रलोभित करना  
लुब्ध करना 359.16  
प्रलोभिनी  
खलनायिका 467.13

प्रलोभी  
लालसी 359 29  
लोभी 359 31  
प्रबंधक  
छली 827 24  
प्रबंधक 635 26 ⇨  
प्रबंधन  
प्रबंधन 635 9 ⇨  
प्रबंधनशीलता  
सहज विश्वासशीलता 340 4  
प्रबंधना  
छल 827 7  
दमित आकांक्षा 352 11  
प्रबंधित  
छलित 827 23  
प्रबंधित 635 25 ⇨  
प्रबंधित करना  
प्रबंधित करना 635 15 ⇨  
प्रयक्तव्य  
वक्तव्य 441 12  
प्रयक्ता  
प्रयक्ता 441 25 ⇨  
लेक्चरर 323 18  
व्याख्याता 427 32  
प्रयधन  
उपदेश 430 9  
धर्म उपदेश 742 5  
धर्म सभा 694 3  
शिक्षकीय प्रवचन 322 6  
शिक्षण 321 18  
सत्संग 749 21  
प्रयधन कर्ता  
उपदेशक 430 24  
प्रयधन दाता  
उपदेशक 430 24  
प्रयधन सभा  
सत्संग 749 21  
प्रयधन  
अधोगामी 1031 28  
दलानयुक्त 989 10  
प्रयधनता  
अभिरुचि 400 2  
प्रवृत्ति 502 1  
प्रवर  
अग्नि प्रतिष्ठा 753 5  
गोत्र 729.1  
गोत्र प्रवर्तक 729 6  
घयन 1009 2  
ज्येष्ठ 229.25  
संतान 718 1  
प्रवर प्रवर्तक ऋषि  
प्रवरर्षि 789.7  
प्रवरर्षि  
प्रवरर्षि 789.7 ⇨  
प्रवर्गीय  
कोटीय 936 7  
प्रवर्णन (प्र)  
प्रजनन 243.2

प्रवर्णित (प्र)  
प्रजनित 243 16  
प्रवर्तक  
अवतारण कर्ता 1080 41  
आविष्कर्ता 307 18  
गोत्र प्रवर्तक 729 6  
प्रवर्तक 693 14 ⇨  
प्रवृत्त कर्ता 502 11  
प्रवर्तन  
घालन 1046 2  
प्रवर्तन 693.3 ⇨  
यान अवतारण 1080 8  
संस्थापना 693 1  
स्थियन 1046 13  
प्रवर्तन करना  
प्रवर्तित करना 693 7  
प्रवर्तयिता  
प्रणोदयिता 1051 34  
प्रवर्तक 693.14  
प्रवर्तित  
गत्वरित 1046 21  
प्रवर्तित 693 13 ⇨  
प्रवृत्त 502 10  
प्रवर्तित करना  
प्रवर्तित करना 693 7 ⇨  
प्रवर्धित  
वर्धित 979 20  
प्रवर्षण  
प्रथम वर्षा दिन 54 3  
प्रवर्षा  
तीव्र वर्षा 54 11  
प्रवर्षिका  
पहेली 333 13  
प्रवह  
वायु सूची 85 2  
प्रवहण  
धारानुकूल नौकायन 1080 2  
बैलगाड़ी 1071 42  
प्रवहन  
तरण 483.20  
प्रवहन 1041 2 ⇨  
भाए वहन 1061 2  
यान 1070 1  
स्त्राय 83 3  
प्रवहमान  
प्रवाहशील 1041 8  
प्रवहित  
तरंगित 1040.30  
प्रवाधक  
कथन कर्ता 430 18  
वार्तालाप कुशल 435.25  
प्रवात  
तूफान 85.8  
शुद्ध वायु 85.3  
सचल वायु 85.4  
प्रवात्या  
तूफान 85.8

प्रवाद  
कुख्याति 848 1  
प्रवाद 440 6 ⇨  
लाछन 843 7  
विवाद 324 1  
प्रवादित  
प्रवादित 440 8 ⇨  
प्रवार  
आच्छाद 593 1  
प्रवारण  
महादान 641 9  
प्रवाल  
प्रवाल 97 4 ⇨  
मूंगा 97 1  
मोती 97 2  
प्रवाल द्वीप  
प्रवाल द्वीप 97 5 ⇨  
प्रवाल द्वीप बलय  
प्रवाल द्वीप बलय 97 6 ⇨  
प्रवाल पुंज  
प्रवाल भित्ति 97 7  
प्रवाल भित्ति  
प्रवाल भित्ति 97 7 ⇨  
प्रवाल रेखा  
प्रवाल भित्ति 97 7  
प्रवाल बलय  
प्रवाल द्वीप बलय 97 6  
प्रवाल वृक्ष  
प्रवाल वृक्ष 97 8 ⇨  
प्रवाग्नित्र  
बायलर 109 21  
प्रवास  
अनावासिता 883 4  
प्रवासन 618 4  
यात्रा 1087 1  
प्रवास करना  
प्रवास करना 618 19 ⇨  
प्रवासन  
देश निर्वासन 870 10  
प्रवासन 618 4 ⇨  
प्रवासपूर्व आवास  
मूल निवास 618 3  
प्रवास स्थान  
प्रवास स्थान 618.13 ⇨  
यात्री निवास 1090 23  
प्रवासालय  
यात्री निवास 1090 23  
प्रवासिक  
अनावासी 883.8  
प्रवासित  
परित्यक्त 1003.4  
प्रवासिता  
अनावासिता 883 4  
प्रवासी  
अनावासी 883.8  
प्रवासी 618.29 ⇨  
यात्री 1087.2

## प्रवासीय

### प्रवासीय

उपनिवेशीय 881.34  
प्रवासीय 618.28 ⇨

### प्रवासी श्रमिक

प्रवासी श्रमिक 618.6 ⇨

### प्रवासी श्रमिक दलाल

प्रवासी श्रमिक दलाल 650.5 ⇨

### प्रवासी होना

प्रवास करना 618.19

### प्रवाह

अविराम गति 1049.2

कथानक 466.11

गति 1042.1

छद्म गति 452.35

जल प्रवाह 21.9

तरंग 1040.1

धारा 21.14

प्रवाह 1041.1 ⇨

लय 458.22

विद्युत करंट 102.2

### प्रवाहक

जलायतारक 1080.44

प्रवाहक 1041.6 ⇨

### प्रवाह कर्म

प्रवाहन 1041.3

### प्रवाह के विपरीत

प्रतिप्रवाह 1096.17

### प्रवाहण

जल अवतारण 1080.9

### प्रवाहन

प्रवाहन 1041.3 ⇨

### प्रवाहमय

प्रवाहशील 1041.8

### प्रवाह रोध

गति प्रतिरोध 1047.5

### प्रवाहशील

गतिशील 1042.11

प्रवाहशील 1041.8 ⇨

प्रवाहित (जल) 21.39

### प्रवाहशील काल

कालचक्र 36.3

### प्रवाहशील जल

प्रवाहशील जल 21.11 ⇨

### प्रवाहशीलता

गतिशीलता 1042.2

### प्रवाहशील होना

प्रवाहित होना 1041.4

### प्रवाहहीन

निश्चल 1038.8

प्रवाहहीन 1041.9 ⇨

### प्रवाहहीन जल

प्रवाहहीन जल 21.12 ⇨

### प्रवाहहीनता

निश्चलता 1038.2

### प्रवाह होना

प्रवाहित होना 1041.4

### प्रवाहिका

जलधारा 21.15

### प्रवाहित

जलायतरित 1080.43

प्रवाहित 1041.7 ⇨

### प्रवाहित (जल)

प्रवाहित (जल) 21.39 ⇨

### प्रवाहित करना

जलावतारण करना 1080.37

### प्रवाहित कर्ता

प्रवाहक 1041.6

### प्रवाहित होना

प्रवाहित होना 1041.4 ⇨

### प्रवाहिनी

नदी 20.1

### प्रवाही

पहुँचाने वाला 1053.17

प्रवाहशील 1041.8

### प्रविधान

वैकल्पिक साधन 558.5

### प्रविधि

तकनीक 514.4

### प्रविधिहीन

अतकनीकी 515.9

### प्रविधिहीनता

अतकनीकता 515.3

### प्रविरति

प्रविरति 329.9 ⇨

### प्रविरल

विरल 1005.9

### प्रविलय

नीर क्षीर मिश्रण 1008.3

### प्रविलयन

संमिश्रण 1008.12

### प्रविष्ट

अंतर्निहित 1002.26

प्रविष्ट 1094.24 ⇨

प्रविष्टिकृत 412.50

समाविष्ट 1002.21

### प्रविष्टक

प्रविष्टक 1002.8 ⇨

### प्रविष्टक पत्र

प्रविष्टक 1002.8

### प्रविष्ट करना

प्रविष्ट करना 1094.19 ⇨

### प्रविष्ट करना: कर्म

प्रविष्टायन 1094.4

### प्रविष्ट वस्तु

भराई सामग्री 1004.4

### प्रविष्ट होना

प्रवेश करना 1094.17

### प्रविष्टायन

प्रविष्टायन 1094.4 ⇨

### प्रविष्टायन (वै.)

अतर्क्षण 1002.6

### प्रविष्टायित

प्रविष्टित 1094.25

### प्रविष्टि

कम्प्यूटर डाटा 951.25

प्रविष्टि 412.27 ⇨

लेखा प्रविष्टि 632.5

### प्रविष्टि करना

प्रविष्टि करना 412.42 ⇨

### प्रविष्टिकृत

प्रविष्टिकृत 412.50 ⇨

### प्रविष्टित

प्रविष्टिकृत 412.50

प्रविष्टित 1094.25 ⇨

### प्रवीण

अभ्यस्त 303.19

प्रवीण 303.22 ⇨

### प्रवीणता

प्रवीणता 303.8 ⇨

### प्रवीणता उपाधि

प्रवीणता उपाधि 322.27 ⇨

### प्रवीण व्यक्ति

प्रवीण व्यक्ति 303.9 ⇨

### प्रवीण होना

अभ्यस्त होना 303.12

### प्रवीर

महावीर 396.8

### प्रवृत्त

अभिमुख 1023.9

आरभित 521.6

प्रवृत्त 502.10 ⇨

### प्रवृत्त कर्ता

प्रवृत्त कर्ता 502.11 ⇨

### प्रवृत्तता

अभिमुखता 1023.1

व्यस्तता 502.4

### प्रवृत्त न होना

प्रवृत्त न होना 503.7 ⇨

### प्रवृत्त रहना

अध्यवसाय करना 489.7

### प्रवृत्त होना

प्रवृत्त होना 502.5 ⇨

### प्रवृत्ति

अभिरुचि 400.2

आचलिक प्रवृत्ति 453.14

आचरण 808.1

आसक्ति 365.1

काव्य प्रवृत्ति 453.13

प्रवृत्ति 502.1 ⇨

मनोवृत्ति 351.7

व्यवहार 828.1

### प्रवृत्तिमय

प्रवृत्तिशील 502.9

### प्रवृत्ति मार्ग

प्रवृत्ति 502.1

### प्रवृत्तिशील

प्रवृत्तिशील 502.9 ⇨

### प्रवृत्तिहीन

प्रवृत्तिहीन 503.10 ⇨

### प्रवृत्तिहीनता

अप्रवृत्ति 503.2

### प्रवृद्ध

परिवर्धित 979.24

### प्रवेशी

वेणी 223.17

### प्रवेशन

कपन 1039.11

### प्रवेश

अध्याय. आरभ 447.3

आधिपत्य 899.8

आप्रवेश 1002.2

पूर्व पीठिका 466.17

पैठ 1094.14

प्रवेश 1094.1 ⇨

प्रवेश सकेत सूची 1094.31

भूमिका 447.8

मघ प्रवेश 468.26

सीमारभ 1001.18

सूर्य सक्रांति 5.25

### प्रवेश अनुमति

प्रवेश अनुमति 1094.8 ⇨

### प्रवेशक

प्रवेश कर्ता 1094.26

### प्रवेश करना

प्रवेश करना 1094.17 ⇨

### प्रवेश कर्ता

प्रवेश कर्ता 1094.26 ⇨

### प्रवेश देना

प्रवेश देना 1094.18 ⇨

### प्रवेश द्वार

प्रवेश द्वार 608.3 ⇨

### प्रवेश धुन

आरभिक सगीत 457.7

### प्रवेशन

प्रविष्टायन 1094.4

प्रवेशन 1094.3 ⇨

### प्रवेश न करना

प्रवेश न करना 1094.20 ⇨

### प्रवेश निषिद्ध

प्रवेश निषिद्ध 1094.28 ⇨

### प्रवेश निषिद्ध करना

क्षेत्र निर्वासित करना 870.18

### प्रवेश निषेध

प्रवेश निषेध 1094.11 ⇨

लाल बत्ती 1067.14

### प्रवेश निषेध होना

प्रवेश निषेध होना 1094.21 ⇨

### प्रवेश पत्र

देश प्रवेशानुमति 1094.9

प्रवेश पत्र 1094.7 ⇨

यात्रापत्र सूची 1087.37

### प्रवेश बंद

लाल झंडी 1067.15

लाल बत्ती 1067.14

### प्रवेश मार्ग

प्रवेश द्वार 608.3

प्रवेश मार्ग 1094.6 ⇨

### प्रवेश बर्जना

प्रवेश निषेध 1094.11

### प्रवेश शुल्क

प्रवेश शुल्क 685.4 ⇨



- प्रवेश संकेत  
हरी बत्ती 1067.17
- प्रवेश संकेत सूची  
प्रवेश संकेत सूची 1094.31 ⇨
- प्रवेश संगीत  
आरम्भिक संगीत 457 7
- प्रवेशशास्त्र  
प्रवेश अनुमति 1094 8
- प्रवेशाधिकार  
मार्गाधिकार 1063 6
- प्रवेशानुमति  
प्रवेश अनुमति 1094 8
- प्रवेशानुमति देना  
आप्रवेश देना 1002 14
- प्रवेशानुमति न होना  
प्रवेश निषेध होना 1094 21
- प्रवेशानुमति पत्र  
प्रवेश अनुमति 1094 8
- प्रवेशानुष्ठान  
प्रवेशोत्सव 1094 5
- प्रवेशारंभ  
हरी झंडी 1067 18
- प्रवेशिका  
पूर्व पीठिका 466 17
- प्रवेश पत्र 1094 7
- प्रवेशित  
प्रविष्ट 1094 24
- प्रवेशोत्सव  
प्रवेशोत्सव 1094 5 ⇨
- प्रवेश्यता  
प्रवेश्यता 1094 2 ⇨
- प्रवेशक  
दाहिना हाथ 149 3
- प्रवेश्य  
प्रवेश कर्ता 1094 26
- प्रव्यक्त  
स्पष्टार्थी 426 33
- प्रव्याहृत  
भविष्य वाणी 261 4
- प्रव्रजन  
संन्यास प्रवेश 233.8
- प्रव्रज्या  
प्रवासन 618 4
- संन्यास आश्रम 233.6
- प्रव्रज्या ग्रहण  
संन्यास प्रवेश 233 8
- प्रव्राजक  
संन्यासी 790 11
- प्रव्राजिका  
संन्यासिनी 790 12
- प्रशंसक  
प्रशंसक 841.31 ⇨
- साधुवादी 841.39
- सिफारिश करने वाला 841 38
- प्रशंसन  
अभिनंदन 854.8
- प्रशंसन 841.4 ⇨
- प्रशंसनीय  
प्रशंसनीय 841 30 ⇨
- महान 839 8
- प्रशंसनीय [प्रशंसनीया]  
प्रशंसनीय 841 30
- प्रशंसनीयता  
महानता 839.1
- प्रशंसा  
प्ररोचना 468 23
- प्रशंसा 841.1 ⇨
- सिफारिश 841 19
- प्रशंसा (वे.)  
ख्याति 847 1
- प्रशंसा आलेख  
प्रशंसा आलेख 841 5 ⇨
- प्रशंसा करना  
ताली बजाना 296 23
- प्रशंसा करना 841.24 ⇨
- प्रशंसा गाना 841 25
- प्रशंसा गथा  
प्रशंसा गथा 841.7 ⇨
- प्रशंसा गान  
कीर्तन 749 30
- प्रशंसा गाना  
प्रशंसा गाना 841.25 ⇨
- प्रशंसा गायक  
प्रशंसा गायक 841 11 ⇨
- प्रशंसा गायक 841.33 ⇨
- प्रशंसा गायक सूची  
प्रशंसा गायक सूची 841.12 ⇨
- प्रशंसा गायन  
प्रशंसा गायन 841.10 ⇨
- प्रशंसा गीत  
ऋसीदा 452 20
- प्रशंसा गीत 841 6 ⇨
- स्तोत्र 741 16
- प्रशंसा पत्र  
अभिनंदन पत्र 854.10
- प्रशंसा आलेख 841 5
- प्रशंसा पत्र 841 9 ⇨
- प्रशंसा फलक  
प्रशंसा पत्र 841 9
- प्रशंसा मंत्र  
नाराशंस 741 8
- प्रशंसा स्तोत्र  
स्तोत्र 741 16
- प्रशंसित  
अभिनंदित 854 21
- ख्यात 847.3
- प्रशंसित 841.29 ⇨
- प्रशंसित (शब्दार्थ)  
मुहम्मद 791 20
- प्रशंसी  
प्रशंसक 841.31
- प्रशंस्य  
प्रशंसनीय 841.30
- प्रशम  
निवृत्ति 503 1
- राहत 171 12
- शांति 372 1
- सांत्यना 393 4
- प्रशमता  
प्रशमता 372.2 ⇨
- प्रशमन  
अग्नि शमन 108 6
- धिकित्सन 171 8
- सात्वना प्रदान 393 5
- प्रशमित  
प्रशमित 372 10 ⇨
- प्रशमित होना  
प्रशमित होना 372 6 ⇨
- प्रशस्त  
उत्तम 313 13
- कल्याणकारी 710.21
- परिष्कृत 537 9
- प्रशंसित 841.29
- प्रसारित 979 17
- विस्तीर्ण 981 10
- प्रशस्त कार्य  
उत्तम कार्य 506.4
- प्रशस्तला  
उत्तमतमता 313 3
- कल्याणकारिता 710 3
- विशिष्टता 312 2
- विस्तीर्णता 981 1
- प्रशस्ति  
पुस्तक अंत 447 13
- प्रशसा 841 1
- प्रशसा आलेख 841 5
- प्रशस्ति गायन  
प्रशंसा गायन 841 10
- प्रशस्ति पट्ट  
अभिनंदन पत्र 854 10
- प्रशस्ति पत्र  
अभिनंदन पत्र 854 10
- प्रशंसा पत्र 841 9
- प्रशस्ति लेख  
प्रशंसा आलेख 841 5
- प्रशस्ति स्तंभ  
प्रशस्ति स्तंभ 255 15 ⇨
- प्रशस्य  
प्रशंसनीय 841 30
- प्रशांत  
अनासक्त 366 5
- आवेशहीन 372 12
- क्रोधहीन 372.13
- निरुद्धिन 378 9
- निश्चल 1038.8
- प्रशमित 372.10
- शांति 372.9
- शांति प्रेमी 906.15
- स्थिरचित्त 355.6
- प्रशांतकाम  
संतोषशील 360:19
- प्रशांतचित्त  
निरुद्धिन 378.9
- शांति - प्रेमी 906 15
- प्रशांतला  
आवेशहीनता 372 3
- निश्चलता 1038 2
- प्रशमता 372 2
- स्थिरचित्तता 355 2
- प्रशांत महासागर  
प्रशांत महासागर 24 17 ⇨
- प्रशांत होना  
प्रशांत होना 372.6
- प्रशांतात्मा  
स्थिरचित्त 355 6
- प्रशांति  
निरुद्धिग्नता 378.3
- प्रशमता 372 2
- शांति 372.1
- प्रशाखा  
शाखा 114 10
- शाखायुक्त 114 15
- प्रशाखन  
नदी प्रशाखन 21 22
- शाखन 117.6
- प्रशाखा  
प्रशाखा 114.11 ⇨
- प्रशाखा: सिरा  
प्रशाखा सिरा 114.12 ⇨
- प्रशाखित  
शाखायुक्त 114 15
- प्रशामक  
अग्नि शामक 108.19
- प्रशामक 372 11 ⇨
- राहत दाता 171 23
- प्रशाला  
बका कमरा 614.2
- प्रशासक  
अनुशासक 893 16
- परामर्शक 332 14
- शासक 890.5
- प्रशासकीय  
शासकीय 890 20
- प्रशासन  
शासन 890.1
- शासन कर्म 890 3
- प्रशासन केंद्र नगर  
राजधानी 620.15
- प्रशासन तंत्र  
शासन तंत्र 890 2
- प्रशासनिक  
शासकीय 890.20
- प्रशासित  
शासित 890 18
- प्रशास्ता  
अनुशासक 893 16
- धर्म उपदेशक 742 22
- परामर्शक 332.14
- प्रशिक्षक  
प्रशिक्षक 323.21 ⇨

## प्रशिक्षण

### प्रशिक्षण

प्रशिक्षण 321.20 ⇨

### प्रशिक्षण करना

जीव प्रशिक्षण करना 555.30

### प्रशिक्षण देना

प्रशिक्षित करना 321.33

### प्रशिक्षण यान

प्रशिक्षण यान 1074.16 ⇨

### प्रशिक्षा

प्रशिक्षा 321.19 ⇨

### प्रशिक्षार्थी

प्रशिक्षु 321.47

### प्रशिक्षित

प्रशिक्षित 321.46 ⇨

### प्रशिक्षित करना

प्रशिक्षित करना 321.33 ⇨

### प्रशिक्षित सैनिक

प्रशिक्षित सैनिक 934.2 ⇨

### प्रशिक्षु

प्रशिक्षु 321.47 ⇨

### प्रशिक्षुता

प्रशिक्षुता 321.21 ⇨

### प्रशिक्षुता

शासित 890.18

### प्रशीत

हिमित 105.23

### प्रशीतक

फ्रीज़र 105.10

### प्रशीतन

हिमन 105.3

### प्रशुद्ध

शुद्ध 219.7

स्वच्छ 218.33

### प्रशोधक

विशोधन कर्ता 219.10

### प्रश्न

आपत्ति 326.4

जिज्ञासा 305.22

पहेली 333.13

पृच्छा 333.2

प्रश्न 333.1 ⇨

वाद विषय 437.8

समस्या 333.11

### प्रश्न उठाना

आपत्ति करना 326.12

### प्रश्न उत्तर

प्रश्न उत्तर 333.9 ⇨

### प्रश्न उपनिषद

उपनिषद सूची 740.13

### प्रश्न करना

जिज्ञासा करना 305.27

पृच्छना 333.19

### प्रश्न कर्ता

प्रियज़र 333.27

प्रश्न कर्ता 333.24 ⇨

### प्रश्न चिह्न (?)

प्रश्न वाचक चिह्न 425.35

### प्रश्न दूती

पहेली 333.13

### प्रश्नन

पृच्छन 333.3

### प्रश्नपत्र

प्रश्नपत्र 322.16 ⇨

### प्रश्नपत्र हल करना

परीक्षा देना 322.34

### प्रश्न पत्रिका

प्रश्नावली 333.7

### प्रश्न पिंड शास्त्र

प्रश्न विचार शास्त्र 262.10

### प्रश्नपूर्ण

प्रश्नात्मक 333.22

### प्रश्न प्रतिप्रश्न

प्रश्न प्रतिप्रश्न 333.8 ⇨

### प्रश्न माला

प्रश्नावली 333.7

### प्रश्न वाचक

प्रश्नात्मक 333.22

### प्रश्न वाचक चिह्न

प्रश्न वाचक चिह्न 425.35 ⇨

### प्रश्न वादी

ज्योतिषी 261.2

### प्रश्न विचार शास्त्र

प्रश्न विचार शास्त्र 262.10 ⇨

### प्रश्न विवाद

वाद विषय 437.8

### प्रश्नशीलता

पृच्छा 333.2

### प्रश्नात्मक

प्रश्नात्मक 333.22 ⇨

### प्रश्नावली

विषय 333.17

प्रश्नावली 333.7 ⇨

### प्रश्नित

प्रश्नित 333.23 ⇨

### प्रश्नी

तथ्यान्वेषी 336.24

प्रश्न कर्ता 333.24

### प्रश्नोत्तर

आकाश वचन 465.4

प्रश्न उत्तर 333.9

### प्रश्नोत्तर पुस्तक

प्रश्नोत्तरी 333.10

### प्रश्नोत्तरी

विषय 333.17

प्रश्नोत्तरी 333.10 ⇨

### प्रश्न्य

शरण 910.4

प्रश्न्यन

श्वास त्याग 245.6

### प्रश्न्यस

श्वास त्याग 245.6

### प्रश्ना

प्रियज़र 333.27

### प्रसंख्यया

कुल जोड़ 954.5

### प्रसंख्यान

गणना 950.1

गणना कर्म 950.11

ध्यानन 331.2

### प्रसंग

अवसर 70.1

आसक्ति 365.1

उपयुक्त अवसर 70.3

प्रकरण 424.7

प्रसंग 437.1 ⇨

रति सयोग 237.10

वाक्य विषय 424.6

संदर्भ 437.3

सयोग 69.1

### प्रसंग अभाव

अप्रासंगिकता 439.2

### प्रसंग अवसर

प्रसंग अवसर 437.2 ⇨

### प्रसंग उठने पर

संदर्भवश 437.17

### प्रसंग छेड़ना

प्रसंग छेड़ना 437.9 ⇨

### प्रसंगतः

संदर्भतः 437.18

### प्रसंगयश

संदर्भवश 437.17

### प्रसंगहीन

अप्रासंगिक 439.6

संदर्भहीन 439.7

### प्रसंगहीनता

अप्रासंगिकता 439.2

संदर्भहीनता 439.3

### प्रसंगानुकूल

अवसरानुकूल 70.14

संगत 438.6

### प्रसंगानुकूलता

अवसरानुकूलता 70.2

संगतता 438.1

### प्रसंगेतर

संदर्भहीन 439.7

### प्रसंगेतरता

संदर्भहीनता 439.3

### प्रसंगोचित

संगत 438.6

### प्रसंगविदा

प्रसंगविदा 339.4 ⇨

### प्रसंस्करण

प्रसंस्करण 527.7 ⇨

### प्रसंस्करण करना

प्रसंस्करण करना 527.10 ⇨

### प्रसंस्कर्ता

प्रकल्पक 527.21

### प्रसंस्कार

प्रसंस्कार 527.6 ⇨

### प्रसंस्कृत

प्रसंस्कृत 527.20 ⇨

### प्रसंस्कृतिया

प्रसंस्कार 527.6

### प्रसक्त

प्रवृत्तिशील 502.9

### प्रसज्य

घटनीय 75.13

### प्रसन्न

आनंदित 382.17

तृप्त 361.16

प्रसन्न 381.7 ⇨

सुखी 390.10

### प्रसन्नक

प्रसन्नताप्रद 381.9

### प्रसन्न करना

प्रसन्न करना 381.5 ⇨

मनाना 374.13

### प्रसन्न कर्ता

प्रसन्न कर्ता 381.8 ⇨

### प्रसन्नकृत

मनाया [मनाई] 374.19

### प्रसन्नविद्य

प्रसन्नविद्य 837.16 ⇨

### प्रसन्नविद्यता

प्रसन्नविद्यता 837.7 ⇨

### प्रसन्नवतः

प्रसन्नतापूर्वक 381.11

### प्रसन्नता

प्रसन्नता 381.1 ⇨

सतोष 360.5

### प्रसन्नता (दे.)

आनंद 382.1

सुख 390.2

### प्रसन्नतापूर्वक

प्रसन्नतापूर्वक 381.11 ⇨

### प्रसन्नताप्रद

प्रसन्नताप्रद 381.9 ⇨

### प्रसन्नन

प्रसन्नन 381.2 ⇨

### प्रसन्नमना

प्रसन्नचित्त 837.16

### प्रसन्नमुख

प्रसन्नचित्त 837.16

### प्रसन्नमुखता

प्रसन्नचित्तता 837.7

### प्रसन्न होना

प्रसन्न होना 381.4 ⇨

### प्रसन्नत्वान्ना

विष्णु 768.1

शिव 767.1

### प्रसन्नित

प्रसन्न 381.7

मनोरंजित 469.12

### प्रसन्निकरण

प्रसन्नन 381.2

मनुहार 374.6

### प्रसर

दीवार चौड़ाई 965.7

### प्रसरण

व्याप्ति 981.5

शयन 1027.1

शास्त्र 117 6  
 सीमातिक्रमण 1001.27  
**प्रसारित**  
 व्यापक 981 12  
**प्रसर्पण**  
 रोग 1084 18  
**प्रसर्पी**  
 रोगने वाला 1084.48  
**प्रसव**  
 प्रसव 244 1 ⇨  
 प्रसव (दे.)  
 गर्भ मोचन 241 7  
**प्रसव अवकाश**  
 प्रसव अवकाश 494 11 ⇨  
**प्रसव अवस्था**  
 प्रसव अवस्था 244 3 ⇨  
**प्रसव करना**  
 प्रसव करना 244 11 ⇨  
**प्रसव कर्मी**  
 प्रसूति कर्मी 244 5  
**प्रसव कर्मी द्वारा प्रसव कर्म**  
 प्रसूति कर्म 244 4  
**प्रसव गृह**  
 प्रसूति गृह 244 8  
**प्रसव शिक्षित्वा**  
 प्रसूति कर्म 244 4  
**प्रसव तक**  
 इष्टत 804 10  
**प्रसवः देवी**  
 सिनीवाली 774 102  
**प्रसव धर्मी**  
 रघुनाथील 527 15  
**प्रसवधन**  
 उत्पादन 546 4  
**प्ररायना**  
 प्रसव करना 244 11  
**प्रसव विशेषज्ञ**  
 प्रसूति कर्मी 244 5  
**प्रसवः सात रात तक दूध**  
 प्रसव सात रात तक दूध 193.3 ⇨  
**प्रसव स्थान**  
 जन्मभूमि 34 13  
**प्रसव होना**  
 प्रसव होना 244.10 ⇨  
**प्रसवाशौच**  
 जनन अशौच 198.8  
**प्रसविता**  
 उत्पादक 546 13  
 जनयिता 243.10  
**प्रसवित्री**  
 जनयित्री 243 11  
 माता 717.7  
**प्रसविनी**  
 जनयित्री 243.11  
**प्रसाद**  
 आशीर्वाद 714.4  
 आहार पदार्थ 186.1  
 काव्य गुण सूची 453.4

चढ़ावा 750 12  
 दया 834 1  
 दान 641 1  
**देवोच्छिष्ट आहार** 198 4  
**प्रशमता** 372 2  
**प्रशमता** 381.1  
**प्रसाद** 750 13 ⇨  
 वरदान 714 1  
 संरक्षणपूर्ण सहायता 700 13  
 सुखद वस्तु 390 3  
**प्रसादक**  
 प्रसन्नताप्रद 381 9  
**प्रसाद चढ़ाना**  
 मन्त्र उतारना 361 10  
**प्रसादन**  
 प्रसन्न 381 2  
 साम नीति 819 4  
**प्रसादना**  
 पूजा करना 751 22  
 रिश्वत देना 865 19  
 सत्कार करना 184 4  
**प्रसादित**  
 प्रसन्न 381 7  
**प्रसादी**  
 देवोच्छिष्ट आहार 198 4  
 प्रशमताप्रद 381 9  
**प्रसाद 750 13**  
**प्रसाधक**  
 अभिमंत्रण कर्ता 758 7  
**प्रसाधक [प्रसाधिका]**  
 मेकअप कर्मी 225 8  
 शृंगार कर्मी 222 10  
**प्रसाधन**  
 मेकअप कर्म 225 7  
 मेकअप सामग्री 225 9  
 शृंगार 222 1  
 शृंगार कर्म 222 9  
**प्रसाधन कक्ष**  
 प्रसाधन कक्ष 614 13 ⇨  
 शृंगार कक्ष 222 7  
**प्रसाधनी**  
 कधी 223 8  
**प्रसाधव्य**  
 मेकअप सामग्री 225 9  
**प्रसाधित**  
 अलंकृत 227 4  
 शृंगारित 222 17  
**प्रसार**  
 अन्त स्थान 33 3  
**प्रसार 979.3 ⇨**  
 विस्फार 119.3  
 संचार 444 34  
**प्रसारक**  
**प्रसारक 979.19 ⇨**  
 वितरक 656.8  
 विस्तारक 981.11  
**प्रसार करना**  
**प्रसार करना 979.11 ⇨**

**प्रसारण**  
 आघात वर्धन 545.6  
 ध्वनि प्रसारण 300 2  
 वितरण 656 7  
**प्रसारना**  
 प्रसार करना 979 11  
**प्रसारशील**  
 अतिक्रामक 1001 42  
**प्रसारशील 979 18 ⇨**  
**प्रसारित**  
 आघात वर्धित 545 29  
**प्रसारित 979 17 ⇨**  
 बिछा [बिछी] 592 16  
 विस्फारित 119 12  
**प्रसारित होना**  
**प्रसारित होना 979 10 ⇨**  
**प्रसारी**  
 प्रसारक 979 19  
 प्रसारशील 979 18  
**प्रसार्य**  
 आघातवर्ध 545 31  
**प्रसार्यता**  
 आघात वर्धता 545 16  
**प्रसायिका**  
 दाई 244 6  
**प्रसिक्ति**  
 ससिक्त मिश्रण 1008 4  
**प्रसिति**  
 आबद्धन उपकरण 1013 7  
**प्रसिद्ध**  
 ख्यात 847 3  
 प्रचारित 442 18  
 प्रतिष्ठित 849 15  
 बहुघणित 436 10  
**प्रसिद्धि**  
 ख्याति 847 1  
 प्रचार 442 1  
**प्रसीदन**  
 प्रसन्न 381 2  
**प्रसीदित**  
 प्रसन्न 381 7  
**प्रसुप्त**  
 निद्रित 266 13  
 मुकुलित 120 8  
**प्रसुप्ति**  
 गहन निद्रा 266 3  
**प्रसुप्तिधा**  
**प्रसुप्तिधा 643.28 ⇨**  
**प्रसू**  
 जनयित्री 243 11  
 माता 717 7  
**प्रसूत**  
 उत्पादित 546.12  
**प्रसूत होना**  
 जन्म लेना 248.8  
**प्रसूता**  
**प्रसूता 244.2 ⇨**

**प्रसूता चर्या**  
**प्रसूता चर्या 244.9 ⇨**  
**प्रसूता द्वारा प्रसव क्रिया**  
 प्रसव 244 1  
**प्रसूति**  
 प्रसव 244 1  
**प्रसूति कक्ष**  
**प्रसूति कक्ष 244.7 ⇨**  
**प्रसूति करवाना**  
 प्रसूति कर्म करना 244 13  
**प्रसूति कर्म**  
**प्रसूति कर्म 244 4 ⇨**  
**प्रसूति कर्म करना**  
**प्रसूति कर्म करना 244.13 ⇨**  
**प्रसूति कर्मी**  
**प्रसूति कर्मी 244 5 ⇨**  
**प्रसूतिक**  
 प्रसूता 244 2  
**प्रसूति गृह**  
**प्रसूति गृह 244.8 ⇨**  
**प्रसूति चर्या**  
 प्रसूता चर्या 244 9  
**प्रसूति भवन**  
 प्रसूति गृह 244 8  
**प्रसून**  
 जन्मा [जन्मी] 248 10  
 पुष्प 115 6  
 फल 116 1  
**प्रसूनक**  
 कली 115 5  
**प्रसूनेषु**  
 कामदेव 773 12  
**प्रसूत**  
 प्रसारित 979 17  
**प्रसूतता**  
 विस्तीर्णता 981 1  
**प्रसेक**  
 स्त्राव 1032 1  
**प्रसेकी**  
 स्त्रावशील 1032 27  
**प्रसेय**  
 उपभोग 524 1  
**प्रस्तर**  
 चट्टान 99 14  
 तल 985 1  
 पाषाण 99 1  
 मणि 96 15  
 सस्तर 990 1  
**प्रस्तर खंड**  
 चट्टान 99 14  
**प्रस्तर पटल**  
 पाषाण पटल 990.19  
**प्रस्तरमय**  
 चट्टानी 99.17  
**प्रस्तर मुर्ति**  
**प्रस्तर मुर्ति 406.9 ⇨**  
**प्रस्तर युग मानव**  
 वय मानव 128.7

## प्रस्तरित जीव पदार्थ

प्रस्तरित जीव पदार्थ	सगत 438 6	सीमात 1001 19	प्रस्फुटित यौवन
जीवाश्म 77 3	सिफारिश 841 37	प्रस्थान (मंच से)	यौवन 231 6
प्रस्तर्रीय	प्रस्तुत करना	मंच प्रस्थान 468 27	प्रस्फुटित रंग
पाषाणीय 99 15	परोसना 183 35	प्रस्थान करना	प्रस्फुटित रंग 289.27 ⇨
प्रस्तररूपल	प्रस्ताव रखना 329 11	जाना 1091 6	प्रस्फुटित होना
घट्टकात मणि 96 17	मथित करना 468 32	प्रस्थान त्रयी	प्रस्फुटित होना 119.6 ⇨
प्रस्तरार	प्रस्तुत कर्ता	प्रस्थान त्रयी 740 10 ⇨	प्रस्फुरण
मैदान 11 1	उपस्थित कर्ता 1021 10	प्रस्थान त्रयी सूची	विशदन 822.3
समतल भूमि 986 3	प्रस्तावक 329 19	प्रस्थान त्रयी सूची 740 11 ⇨	स्फुरण 1039 6
प्रस्तरारक	प्रस्तुत कर्ता: मत	प्रस्थान मार्ग	प्रस्फोटन
प्रसारक 979 19	पूर्व पक्ष 324 11	उत्त्नोतन 21 2	प्रस्फुरण
विस्तारक 981 11	प्रस्तुतता	प्रस्थानशील	विस्मरण 357 5
प्रस्तरारी	उद्यतता 491 3	गमनशील 1091 10	प्रसंस
प्रसारक 979 19	प्रस्तुत प्रश्न	प्रस्थानित	गर्भपात 241 6
विस्तारक 981 11	वाद विषय 437 8	गत 1091 8	प्रशय
प्रस्ताय	समस्या 333 11	प्रस्थानी	घारोष्ण दूध 193 5
आरभ 994 3	प्रस्तुत होना	गता 1091 9	प्रशाय
आरभिक अवस्था सूची 994 23	उपस्थित होना 1021 6	प्रस्थापक	स्त्राय 1032 1
पूर्व पक्ष 324 11	प्रस्तुति	प्रतिपादक 326 16	प्रस्तुत
प्रस्ताय 329 1 ⇨	अभिनय 464 2	सस्थापक 693 10	अयित 1032 26
विवाह प्रस्ताव 799 29	अभिव्यक्ति 428 1	प्रस्थापन	प्रस्थिन्न
प्रस्ताव अपारण	परिकल्प प्रदर्शन 520 7	प्रतिपादन 326 1	उबला [उबली] 91 11
अपारण 329 8	प्रकटन 822 7	स्थितन 1020 3	स्वेदित 215 31
प्रस्तायक	प्रदर्शन 285 1	प्रस्थापना	प्रस्येद
प्रस्तायक 329 19 ⇨	प्रदान 638 1	नाट्य आरभ सूची 468 24	स्वेद 215 3
प्रस्ताव कर्ता	प्रस्ताव 329 1	पूर्व पक्ष 324 11	प्रस्येदन
प्रस्तायक 329 19	मचन 468 1	सस्थापना 693 1	प्रस्येदन 215.4 ⇨
प्रस्ताव का विरोध करना	शो 468 5	प्रस्थापित	प्रस्येदन कक्ष
प्रतिरोध करना 329 14	सिफारिश 841 19	सस्थापित 693 9	वाष्प रत्नान कक्ष 221 19
प्रस्ताव का समर्थन करना	प्रस्तुति: अभ्यास	स्थित 1020 8	प्रस्येदित
अनुसमर्थन करना 329 13	रिहर्सल 468 16	प्रस्थित	स्वेदित 215 31
प्रस्तायना	प्रस्तुति क्रम	गत 1091 8	प्रहत
कथा प्रस्तावना 466 13	काल क्रम 991 8	स्थावर 1038 7	आहल 168 6
नाट्य आरभ सूची 468.24	प्रस्तुति योग्य	स्थित 1020 8	पराजित 913 5
भूमिका 447 8	मंचनीय 468 35	प्रस्थिति	प्रहारित 918 30
वाद प्रस्तुति 324 8	प्रस्तुति: सफलता	जायक 1054 6	प्रहर
प्रस्ताव पारण	नाट्य सिद्धि 468 29	प्रस्थिद (त्र)	पहर 49 1
पारण 329 6	प्रस्तुत्य	पीरुषिद 132 13	पहरा 908 5
प्रस्ताव पारित करना	मचनीय 468 35	प्रस्निग्ध	पारी 70.9
पारण करना 329 16	प्रस्तोता	तला [तली] 195 73	प्रहरण
प्रस्ताव रखना	प्रतिपादक 326 16	प्रस्तुषा	शस्त्र 922 2
प्रस्ताव रखना 329.11 ⇨	प्रदर्शक 285 44	नतोहू 724.25	प्रहरी
प्रस्ताव विरोध	प्रशासक 841 31	प्रस्फुट	पहरेदार 908.9
प्रतिरोध 329 4	प्रस्तायक 329 19	विशद 822 21	प्रहर्ता
प्रस्ताव समर्थक	सिफारिश करने वाला 841.38	प्रस्फुटन	आक्राता 914.20
अनुसमर्थक 329 23	प्रशय	अकुरण 117 1	प्रहारक 918.31
प्रस्तायित	मैदान 11 1	प्रस्फुटन 119 1 ⇨	प्रहर्ष
प्रस्तायित 329.18 ⇨	विस्तार 981.2	रंग प्रस्फुटन 291.3	अति आनंद 382.4
प्रस्तायित करना	समतल भूमि 986 3	विशदन 822.3	प्रहर्षक
प्रस्ताव रखना 329 11	स्थित 1020 8	प्रस्फुटन काल	प्रसन्न कर्ता 381.8
प्रस्तायित कार्यक्रम	प्रस्थता	वसत काल 52.1	प्रहसन
कार्यक्रम 520.4	स्थावरता 1038.1	प्रस्फुटित	प्रहसन 450.28 ⇨
प्रस्तुत	स्थितता 1020.2	अंकुरित 117.18	विनोद 385.1
उद्यत 491 15	प्रस्थान	प्रस्फुटित 119.10 ⇨	हास्य नाटक 463.5
उपमेय 309.9	गमन 1091.1	युवा 231 12	प्रहस्त
उपस्थित 1021.9	निर्गम 1092 1	विशद 822.21	पाणि 150.1
प्रस्तायित 329.18	निर्गम संकेत सूची 1092.20	प्रस्फुटितता	राक्षस सूची 784.4
मथित 468.34	प्रयाण 907.25	प्रस्फुटितता 119.2 ⇨	

प्रहार  
 ठीकर 1084 10  
 प्रहार 918 1 ⇨  
 प्रहार अनिवारण  
 प्रहार अनिवारण 919.2 ⇨  
 प्रहार असहन  
 प्रहार असहन 919 1 ⇨  
 प्रहारक  
 प्रहारक 918 31 ⇨  
 प्रहार करना  
 प्रहार करना 918 21 ⇨  
 प्रहार न बधना  
 प्रहार न बधना 919 6 ⇨  
 प्रहार न सहना  
 प्रहार न सहना 919 5 ⇨  
 प्रहार निवारण  
 प्रहार निवारण 920 3 ⇨  
 प्रहार प्रतिप्रहार  
 प्रहार प्रतिप्रहार 918 3 ⇨  
 प्रहार बधाना  
 प्रहार बधाना 920.13 ⇨  
 प्रहारशील  
 प्रहारशील 918 32 ⇨  
 प्रहार सहन  
 प्रहार सहन 920 1 ⇨  
 प्रहार सहन कर्ता  
 प्रहार सहन कर्ता 920 16 ⇨  
 प्रहार सहन शक्ति  
 प्रहार सहन शक्ति 920 2 ⇨  
 प्रहार सहना  
 प्रहार सहना 920.12 ⇨  
 प्रहार सीमा  
 प्रहार सीमा 918 2 ⇨  
 प्रहारित  
 प्रहारित 918 30 ⇨  
 संचालित (शस्त्र) 930.18  
 प्रहारी  
 आक्रांता 914 20  
 प्रहारक 918 31  
 प्रहारोन्मुख  
 प्रहारशील 918.32  
 प्रहास  
 अटटहास 384 2  
 प्रहासी  
 अटटहासी 384.16  
 घटकीला [घटकीली] 289.33  
 भौंड 473 16  
 विदूषक 467 19  
 हास्य अभिनेता 464 16  
 प्रहित  
 संचालित (शस्त्र) 930 18  
 प्रहत  
 प्रहारित 918.30  
 प्रहेति  
 गधर्व सूची 778 5  
 राक्षस सूची 784.4  
 प्रहेलक  
 पहेली 333.13

प्रहेला  
 क्रीड़ा 469 4  
 विनोद 385 1  
 प्रहेलिका  
 चौसठ कला सूची 397 4  
 पहेली 333 13  
 प्रह्लाद  
 अति अनंद 382 4  
 प्रह्लाद 769 22  
 प्रह्लाद  
 अति आनंद 382 4  
 आनंद 382 1  
 दैत्य सूची 783 19  
 प्रह्लाद 769 22 ⇨  
 हिरण्य कशिपु पुत्र सूची 769 27  
 प्रह्लादान  
 प्रसन्न 381 2  
 प्रह्लादः पिता  
 प्रह्लाद पिता 769 23 ⇨  
 प्रह्लादः पौत्र  
 यति 769 37  
 प्रह्लादः माता  
 प्रह्लाद माता 769 24 ⇨  
 प्रह्लाद रक्षक अवतार  
 नृसिंह अवतार 769 20  
 प्रह्लाद विना  
 तर्क शास्त्र 325 17  
 प्रह्लादी  
 आनंदशील 382 19  
 प्रांगण  
 आंगन 604 4  
 कुरती मैदान 482 11  
 क्रीड़ांगन 482 6  
 प्रांगार  
 कार्बन 92 6  
 प्रांगार रसायन  
 कार्बनिक रसायन 87 3  
 प्रांगारिक  
 चेतन 121 16  
 प्रांगारिक पदार्थ  
 जीव द्रव्य 129 1  
 प्रांगारीकरण  
 अगारण 108 4  
 प्रांजल  
 ईमानदार 815 7  
 कलापूर्ण 402 3  
 बोध्य 518 17  
 समतल 986 9  
 प्रांजलता  
 कलापूर्णता 402 1  
 बोध्यता 518 5  
 प्रांजल भाषा  
 परिष्कृत भाषा 421.27  
 सहज भाषा 421 23  
 प्रांत  
 क्षेत्र 34 1  
 छोर 1000 3  
 पश्चभाग 995 6

प्रदेश 34 9  
 सीमा क्षेत्र 34 4  
 सीमा 1001 1  
 प्रांतधर  
 सहयात्री 1088 2  
 प्रांत निरपेक्षता  
 राष्ट्रवाद 884 27  
 प्रांत प्रशासक  
 प्रांत प्रशासक 882 31 ⇨  
 राज्यपाल 891 3  
 प्रांतर  
 वन 12 1  
 प्रांतवाद  
 प्रांतवाद 884.29 ⇨  
 प्रांत सापेक्षता  
 प्रांतवाद 884 29  
 प्रांतिक  
 प्रदेश स्तरीय 35 4  
 प्रदेशीय 34 16  
 प्रांतीय  
 क्षेत्रीय 34 14  
 प्रदेश स्तरीय 35 4  
 प्रदेशीय 34 16  
 प्रांतीयता  
 प्रांतवाद 884 29  
 प्रांतीयतावाद  
 प्रांतवाद 884 29  
 प्रांशु  
 लंबे क्रद वाला 154 13  
 प्रांशुता  
 उच्चता 982.1  
 प्रांशुल  
 उच्च 982 7  
 प्रांशुलता  
 उच्चता 982 1  
 प्राइम नंबर (अं)  
 अभाज्य संख्या 949 13  
 प्राइम मिनिस्टर (अं)  
 प्रधान मंत्री 889 21  
 प्राइवेट रोड (अं)  
 निजी मार्ग 1063.7  
 प्राइवेट सैक्रेटरी (अं)  
 निजी सचिव 652.24  
 प्राइवेटाइजेशन (अं)  
 विराष्ट्रीयकरण 635 4  
 प्राइवेटाइज्ड (अं)  
 विराष्ट्रीयकृत 635 20  
 प्राइस (अं)  
 मूल्य 664 1  
 प्राऊ (अं)  
 अगला झुकाव 1073 21  
 नौकाग्र 1073 23  
 प्राक  
 अग्र 994 18  
 आरंभ में 994 20  
 प्राकम्य  
 सिद्धि देवी सूची 774 101

प्राकरगिक  
 उपमेय 309 9  
 प्राकाम्य  
 मनोवाञ्छित 359 27  
 प्राकार  
 परकोटा 604 11  
 प्राकृत  
 प्राकृत 421 8 ⇨  
 प्राकृतिक 762 10  
 सामान्य 311 3  
 रवाभायिक 836 11  
 प्राकृतता  
 असभ्यता 734 1  
 प्राकृत सूची  
 प्राकृत सूची 421 9 ⇨  
 प्राकृतिक  
 अकर्तृक 505 22  
 अनलंकृत 227 5  
 असभ्य 734 14  
 प्राकृतिक 762 10 ⇨  
 मानव अरथित 528 9  
 स्वाभाविक 836 11  
 प्राकृतिक उत्पात  
 भौतिक सकट 909 3  
 प्राकृतिक गैस  
 मीथेन 86 9  
 प्राकृतिक थिक्त्सक  
 प्राकृतिक थिक्त्सक 172 15 ⇨  
 प्राकृतिक थिक्त्सा  
 प्राकृतिक थिक्त्सा 172 14 ⇨  
 प्राकृतिक जलाशय  
 प्राकृतिक जलाशय 18 5 ⇨  
 प्राकृतिकता  
 अनलंकृतता 227 2  
 मानव अरथितता 528 3  
 रवाभायिकता 836 5  
 प्राक  
 आदिम 63 7  
 प्राक्-  
 पहला [पहली] 948 85  
 प्राक्कथन  
 भूमिका 447 8  
 प्राक्कर्म  
 पूर्व कर्म 260 8  
 प्राक्कलन  
 पूर्वाकलन 947 7  
 प्राक्काल  
 प्राचीन काल 78 5  
 भूत काल 36 10  
 प्राक्कालीन  
 पूर्व कालीन 60 14  
 प्राचीन 63 8  
 प्राक्तन  
 पूर्व कालीन 60.14  
 समय पूर्व 62 15  
 प्राक्तनता  
 समय पूर्वता 62.3

## प्राख्य

- प्राख्य  
तेजस्विता 839 5  
प्रागितिहास  
प्रागितिहास 76.3 ⇐  
प्रागितिहास काल  
प्रागितिहासिक काल 76 4  
प्रागितिहासिक  
प्रागितिहासिक 76.11 ⇐  
प्रागितिहासिक काल  
प्रागितिहासिक काल 76 4 ⇐  
प्रागितिहासिक मानव  
आदिम मानव 128 4  
प्रागुक्त  
पूर्व कथित 430 20  
प्रागुक्ति  
पूर्व कथन 430 5  
प्रागितिहासिक  
प्रागितिहासिक 76 11  
प्राचीन 63 6  
सुदूर भूत कालीन 36 20  
प्रागितिहासिकता  
प्राचीनता 63 1  
प्राग्  
आदिम 63 7  
प्राग्भाव  
पूर्व जन्म 248 5  
प्राग्  
उत्सम 313 13  
प्राग्  
आरंभ मे 994 20  
प्राग्  
आरंभ मे 994.20  
प्राग्दल  
सीमा माप 958.15  
प्राग्दल (ज्यामिति)  
चल सीमा 1001.4  
प्राग्दार्थ  
प्राध्यापक 323 16  
प्राग्दी  
पूर्व 29.11  
प्राग्दीन  
पारंपरिक 795 13  
पारंपरिक 795 13  
पूर्व कालीन 60 14  
प्राग्दीन 63.6 ⇐  
सुदूर भूत कालीन 36 20  
प्राग्दीन अपराध परीक्षा  
प्राग्दीन न्याय प्रथा 876 2  
प्राग्दीन काल  
प्राग्दीन काल 76.5 ⇐  
सुदूर भूत काल 36 12  
प्राग्दीन कालीनता  
प्राग्दीनता 63.1  
प्राग्दीन गाथा  
इतिहास कथा 450 15  
प्राग्दीनता  
आनुवंशिकता 727.17  
पारंपरिकता 795.2
- प्राग्दीनता 63.1 ⇐  
प्राग्दीन न्याय परीक्षा  
प्राग्दीन न्याय प्रथा 876.2  
प्राग्दीन न्याय प्रथा  
प्राग्दीन न्याय प्रथा 876.2 ⇐  
प्राग्दीन भारतीय दर्शन  
बड़ दर्शन 760 27  
प्राग्दीन भारतीय शास्त्रीय संगीत  
प्राग्दीन भारतीय शास्त्रीय संगीत 457.9 ⇐  
प्राग्दीन लिखित अवशेष  
पुरालेख 77 7  
प्राग्दीन सुरक्षित शव  
प्राग्दीन सुरक्षित शव 254.3 ⇐  
प्राग्दीन हस्तलिपि  
प्राग्दीन हस्तलिपि 77.11 ⇐  
प्राग्दीपति  
इन्द्र 773 5  
प्राग्दीर  
दीवार 807.1  
दुर्ग परकोटा 604 14  
परकोटा 604 11  
प्राग्दीर कुंड  
होज 18.14  
प्राग्दीर विज्ञापन  
पोस्टर 442 7  
प्राग्दीरहीन  
अपरिचीमित 1001.36  
प्राग्द्युय  
अत्यधिकता 944.2  
विशाल मात्रा 946.8  
समृद्धि 626.1  
प्राग्द्युय  
दक्ष 787 2  
मनु 788 1  
वाल्मीकि 789 19  
प्राग्द्युय  
आदिम 63.7  
प्राग्द्युय  
अग्र 994.18  
पूर्वी 29.32  
प्राग्जापत्य  
प्रजापतीय 787 29  
प्राग्जापत्य विवाह  
प्राग्जापत्य विवाह 799.26 ⇐  
प्राग्ज्ञ  
दूरदर्शी 301 35  
प्रवीण 303.22  
विद्वान् व्यक्ति 319.2  
प्राग्ज्ञ  
ऊर्जा 101 1  
गतिक बल 1050.1  
धयापधय 178.1  
जीवन 246.6  
पद्यप्राग्ज्ञ सूची 245 3  
पति 803.5  
प्राग्ज्ञ तत्त्व 245.1  
ब्रह्म 764 24  
वायु 85 1
- विष्णु 768.1  
शक्ति 487.1  
शारीरिक बल 180.2  
श्वस 245.4  
प्राग्ज्ञ  
ऊर्जायक 101.15  
प्राग्ज्ञ की बाजी  
जान की बाजी 909 6  
प्राग्ज्ञ क्षमा  
प्राग्ज्ञ क्षमा 250.2 ⇐  
प्राग्ज्ञ क्षमा करना  
प्राग्ज्ञ क्षमा करना 250.11 ⇐  
प्राग्ज्ञ क्षमा कर्ता  
प्राग्ज्ञ क्षमा कर्ता 250.18 ⇐  
प्राग्ज्ञ क्षमा मोगना  
प्राग्ज्ञ क्षमा मोगना 250.12 ⇐  
प्राग्ज्ञ घात  
मारण 251.1  
प्राग्ज्ञ घाती  
मारक 251 24  
प्राग्ज्ञघ्न  
मारक 251 24  
प्राग्ज्ञधय  
शक्ति वर्धन 487 3  
प्राग्ज्ञ धित शरीर: छह क्लेश  
बड़क्लेश 761.18  
प्राग्ज्ञ जीवन  
पति 803.5  
प्राग्ज्ञ तत्त्व  
प्राग्ज्ञ तत्त्व 245.1 ⇐  
प्राग्ज्ञध  
तीर्थ स्थान 1089.10  
प्राग्ज्ञ दंड  
मृत्यु दंड 871 1  
प्राग्ज्ञ दंडादेश  
मृत्यु दंडादेश 871.2  
प्राग्ज्ञद  
रुधिर 131.1  
विष्णु 768.1  
शक्ति वर्धक 487.23  
स्फूर्तिप्रद 491 14  
प्राग्ज्ञ दयिता  
प्रेमपात्रा 369 5  
प्राग्ज्ञ दान  
आत्मबलि 754 3  
प्राग्ज्ञ क्षमा 250.2  
प्राग्ज्ञ दान देना  
प्राग्ज्ञ क्षमा करना 250.11  
प्राग्ज्ञ दानी  
आत्मबलिदानी 754.23  
प्राग्ज्ञ क्षमा कर्ता 250.18  
प्राग्ज्ञ दुरोधर  
जान की बाजी 909.6  
प्राग्ज्ञ द्युय  
जान की बाजी 909.6  
प्राग्ज्ञधन  
प्रेमपात्र 369.4
- प्राग्ज्ञ  
ऊर्जायन 101.6  
प्राग्ज्ञनाथ  
पति 803.5  
प्रेमपात्र 369 4  
प्राग्ज्ञ नाशक  
शक्ति नाशक 488 13  
प्राग्ज्ञ निकालना  
मारना 251.18  
प्राग्ज्ञ निग्रह  
प्राग्ज्ञायाम 245.11  
प्राग्ज्ञ पत्नरु उरुना  
मरना 249.18  
प्राग्ज्ञ पणता  
साहस 394.1  
प्राग्ज्ञ पत्नी  
साहसी 394.13  
प्राग्ज्ञपति  
पति 803.5  
वैद्य 172 8  
प्राग्ज्ञ प्रतिष्ठा  
मूर्ति प्राग्ज्ञ प्रतिष्ठा 598.9  
प्राग्ज्ञप्रद  
जीवन रक्षक 908.23  
शक्ति वर्धक 487.23  
स्फूर्तिप्रद 491.14  
प्राग्ज्ञप्रिय  
पति 803 5  
प्रेमपात्र 369.4  
प्राग्ज्ञप्रिया  
पत्नी 803.6  
प्रेमपात्रा 369.5  
प्राग्ज्ञ फूकना  
अनुप्राग्ज्ञित करना 1046 19  
प्राग्ज्ञ भय  
प्राग्ज्ञ संकट 909.5  
प्राग्ज्ञमय  
श्वसयुक्त 245.23  
प्राग्ज्ञमय कोश  
आत्मा: आवरण सूची 763.8  
प्राग्ज्ञमयम  
प्राग्ज्ञायाम 245.11  
प्राग्ज्ञ योनि  
वायु 85.1  
प्राग्ज्ञ रंभ  
नाक 142.3  
प्राग्ज्ञ लैना  
मारना 251.18  
प्राग्ज्ञबला  
शक्तिशालिता 487.2  
प्राग्ज्ञ बल्लभ  
प्रेमपात्र 369.4  
प्राग्ज्ञ बल्लभा  
प्रेमपात्रा 369.5  
प्राग्ज्ञबान  
जीवित 246.13  
स्फूर्त 491.13

प्राणवान [प्राणवती]  
शक्तिशाली 487.20  
प्राण वायु  
ओक्सीजन 86.3  
श्वास 245.4  
प्राण संकट  
प्राण संकट 909.5 ⇨  
प्राण संकट में डालना  
जान की बाजी लगाना 909.17  
प्राण संकट में होना  
प्राण संकट में होना 909.15 ⇨  
प्राण संघारण  
अनुप्राणन 1046.6  
प्राण संयम  
प्राणायाम 245.11  
प्राणसमा  
पत्नी 803.6  
प्रेमपात्रा 369.5  
प्राणसार  
बलिष्ठ 160.10  
प्राणहर  
मारक 251.24  
शक्ति नाशक 488.13  
प्राणहारी  
शक्ति नाशक 488.13  
प्राणहीन  
अजीवित 247.8  
अबलिष्ठ 159.12  
स्फूर्तिहीन 492.14  
प्राणहीनता  
अबलिष्ठता 159.3  
प्राणांत  
मृत्यु 249.1  
प्राणांतक  
मारक 251.24  
मारने वाला 251.26  
प्राणांतक शत्रु  
प्राणांतक शत्रु 706.7 ⇨  
प्राणांत: मार्ग  
शरीर: नी रंघ 138.2  
प्राणांतिक  
जल्दाद 871.17  
प्राणा  
पत्नी 803.6  
प्राणाघात  
हत्या 251.5  
प्राणाति  
ओक्सीजन 86.3  
प्राणात्मा  
आत्मा 763.1  
सूत्रात्मा 763.4  
प्राणात्स्य  
प्राण संकट 909.5  
प्राणाधार  
पति 803.5  
प्रेमपात्र 369.4  
प्रेमी 368.2

प्राणाधार  
पत्नी 803.6  
प्रेमपात्रा 369.5  
प्राणाधिक  
प्रेमपात्र 369.4  
प्राणाधिका  
प्रेमपात्रा 369.5  
प्राणाधिप  
आत्मा 763.1  
प्राणायतन  
शरीर: नी रंघ 138.2  
प्राणायन  
ज्ञानेंद्रिय 268.5  
प्राणायाम  
प्राणायाम 245.11 ⇨  
योगा सूची 756.14  
प्राणायाम करना  
प्राणायाम करना 245.20 ⇨  
प्राणायाम कर्ता  
प्राणायाम कर्ता 245.27 ⇨  
प्राणायामी  
प्राणायाम कर्ता 245.27  
प्राणावरोध  
श्वासावरोध 245.9  
प्राणाहुति मंत्र  
मंत्र सूची 741.4  
प्राणिक  
मंद स्वरीय 299.23  
प्राणित  
अनुप्राणित 1046.31  
उत्प्रेरित 499.8  
ऊर्जायित 101.14  
गत्वरित 1048.21  
प्राणी  
जीव 121.4  
मानव 128.1  
प्राणी उद्यान  
चिड़िया घर 603.10  
प्राणी और बनस्पति  
चेतन जगत 121.1  
प्राणी जगत  
जीव जगत 121.3  
प्राणी द्युत  
प्राणी द्युत 481.4 ⇨  
प्राणी प्रमुख  
वानर 127.89  
प्राणीय  
जीवीय 121.17  
प्राणी संग्रहालय  
चिड़िया घर 603.10  
प्राणी हिंसा  
जीवघात 251.11  
प्राणेश  
पति 803.5  
प्राणेशा  
पत्नी 803.6  
प्रेमपात्रा 369.5

प्राणेश्वर  
पति 803.5  
प्रेमपात्र 369.4  
प्राणेश्वरी  
पत्नी 803.6  
प्रेमपात्रा 369.5  
प्राणोत्सर्ग  
आत्मबलि 754.3  
प्राणोत्सर्ग करना  
आत्मबलि देना 754.19  
प्राणोत्सर्गी  
आत्मबलिदानी 754.23  
प्रातः  
प्रभात काल 47.4  
प्रातः उपाहार  
प्रातः उपाहार 200.2 ⇨  
प्रातःकाल  
त्रिसंध्या सूची 47.3  
पूर्वाह्न 47.7  
प्रभात काल 47.4  
प्रातःकाल होना  
प्रभात होना 47.17  
प्रातःकालीन  
प्रभात कालीन 47.19  
प्रातःकालीन अर्धप्रकाश  
प्रातःकालीन अर्धप्रकाश 287.11 ⇨  
प्रातःकालीन लालिमा  
प्रातः लालिमा 287.14  
प्रातःकालीन शुक्र  
प्रातःकालीन शुक्र 7.10 ⇨  
लूसीफर 785.4  
प्रातः गान  
प्रभाती 451.28  
प्रातः जलपान  
प्रातः उपाहार 200.2  
प्रातः दीपक  
प्रातः दीपक 285.15 ⇨  
प्रातः बासी उपाहार  
प्रातः बासी उपाहार 200.3 ⇨  
प्रातः लालिमा  
प्रातः लालिमा 287.14 ⇨  
प्रातः सै क्षायकाल तक तिथि  
त्रिसध्यस्पर्श तिथि 44.6  
प्रातराश  
प्रातः उपाहार 200.2  
प्रातर्गैय  
प्रभाती गायक 460.35  
बंदीजन 841.15  
प्रातर्भोजन  
प्रातः उपाहार 200.2  
प्रातस्सन  
प्रभात कालीन 47.19  
प्रातिकूल्य  
विरुद्धता 886.2  
प्रातिपदिक  
अरूपांतरित शब्द 423.11  
प्रातिहारक  
जादूगर 474.11

प्रातीच्य  
परिधनी 29.33  
प्रातीतिक  
काल्पनिक 308.18  
प्रातीप  
शांतनु 771.89  
प्राथमिक  
आदिम 63.7  
आरंभिक 994.16  
पहला [पहली] 948.85  
प्रधान 852.10  
प्राथमिक अभ्यास  
आरंभिक अभ्यास 303.6  
प्राथमिक चिकित्सा  
तत्काल चिकित्सा 173.6  
प्राथमिकता  
प्रधानता 852.3  
प्राथमिक पाठशाला  
शिक्षालय सूची 321.11  
प्रादर्श  
नमूना 520.13  
प्रारूप 520.8  
प्रादुर्भाव  
अवतरण 769.2  
उत्पत्ति 546.5  
उदय 5.7  
जन्म 248.1  
प्रकटन 822.7  
प्रादुर्भूत  
अवतरित 769.42  
उत्पन्न 546.9  
उदित 5.28  
जन्मा [जन्मी] 248.10  
प्रादेश  
अंगुठा-तर्जनी मध्य स्थान 33.7  
प्रदेशीय 34.16  
प्रादेशिक  
क्षेत्रीय 34.14  
प्रदेश स्तरीय 35.4  
प्रदेशीय 34.16  
प्राधनिक  
विष्वसक शस्त्र 922.6  
प्राधानिक  
प्रथम स्थानीय 707.11  
प्राधिकरण  
प्राधिकरण 692.12 ⇨  
प्राधिकरण कार्यालय  
प्राधिकरण 692.12  
प्राधिकृत  
अनुमति दत्त 337.22  
प्राध्यापक  
प्राध्यापक 323.16 ⇨  
प्रापक  
प्राप्ता 637.9  
प्रापयिता  
प्राप्ता 637.9  
प्राप्त  
उपलब्ध 943.9

## प्राप्त (बोध)

परिणामत प्राप्त 510 11  
प्रतिलब्ध 863 8  
प्राप्त 637 8 ⇌  
प्राप्त (बोध)  
प्राप्त कराना 301 28 ⇌  
प्राप्त (सूचना)  
संज्ञात 441 18  
प्राप्त करना  
आदान करना 637 3  
प्राप्त कराना  
प्राप्त कराना 637 5 ⇌  
प्राप्त कर्ता  
प्राप्ता 637 9  
प्राप्तकाम  
सफल 512 6  
प्राप्त न होना  
प्राप्त न होना 639 15 ⇌  
प्राप्तभोजन  
प्राप्तभोजन 181 51 ⇌  
प्राप्तमनोरथ  
पूर्णेच्छ 361 13  
प्राप्तार्थीयन  
युवा 231 12  
प्राप्तार्थीयन विवाहित स्त्री  
प्राप्तार्थीयन विवाहित स्त्री 236 8 ⇌  
प्राप्त वस्तु रक्षा  
योगक्षेम 710 8  
प्राप्तार्थ्य  
आदेय 634 31  
कथा फल 466 12  
गतव्य 1100 1  
प्राप्तव्यता  
आदेयता 634 13  
प्राप्तव्ययहार  
वयस्क 229 21  
प्राप्त संख्या  
गणित फल 953 3  
भाग फल 955 14  
प्राप्त हित रक्षा  
योगक्षेम 710 8  
प्राप्त होना  
खोजा जाना 863 5  
प्राप्त होना 637 4 ⇌  
प्राप्तांक  
गणित फल 953 3  
प्राप्तांक 322 21 ⇌  
प्राप्तांश  
भाग फल 955 14  
प्राप्ता  
आदाता 637 7  
प्राप्ता 637 9 ⇌  
प्राप्तार्थ्य  
दीर्घार्थ्य 229 19  
प्राप्तार्थ्य  
सफल 512 6  
प्राप्ति  
आदान 637 1  
आय 643 1

1280

आवक 1054 8  
उगाही 634 1  
उपलब्धता 943 1  
कामदेव पत्नी सूची 773 14  
गणित फल 953 3  
परिणाम प्राप्ति 510 2  
प्रतिफल 510 3  
प्राप्ति 637 2 ⇌  
लाभ 646 2  
सफलता 512 1  
सिद्धि देवी सूची 774 101  
प्राप्तिका  
आवक पत्र 1054 9  
रसीद 632 25  
प्राप्ति पत्र  
आवक पत्र 1054 9  
रसीद 632 25  
प्राप्ति स्थान  
भंडार 670 3  
प्राप्ति होना  
प्राप्त होना 637 4  
प्राप्तीच्छा  
लालसा 359 5  
प्राप्य  
उपलब्ध 943 9  
प्राप्य अंश  
प्राप्य अंश 623 8 ⇌  
प्राप्यकारी  
ज्ञानेद्रिय 268 5  
प्राप्यता  
उपलब्धता 943 1  
प्राबोधिक  
प्रभाती गायक 460 35  
बदीजन 841 15  
प्राभंजनि  
हनुमान 781 19  
प्राभ (अँ)  
बच्चा गाड़ी 1071 26  
प्राभाणिक  
तथ्यात्मक 820 24  
प्राभाणिक 327 11 ⇌  
मापित 958 57  
विज्ञान संगत 307 13  
विधिज्ञ 878 13  
व्यापार संघ अध्यक्ष 692 18  
शास्त्र संगत 318 7  
शास्त्रीय 318 6  
प्राभाणिक कथन  
प्राभाणिक कथन 327 4 ⇌  
प्राभाणिकता  
विश्वसनीयता 340 2  
वैज्ञानिकता 307 2  
प्रायः  
अंदाजन 947 28  
अधिकत 944 11  
प्राय 73 7 ⇌  
सुलभत 943 7

प्रायःद्वीप  
प्रायद्वीप 26 9  
-प्राय  
सादृश्य उक्ति सूची 309 26  
प्रायगत  
मृतप्राय 249 29  
प्रायण  
उपवास अत भोजन 748 15  
प्रायद्वीप  
प्रायद्वीप 26 9 ⇌  
प्रायवृत्त  
वर्तुलप्राय 976 18  
प्रायशः  
अधिकत 944 11  
सुलभत 943 7  
प्रायश्चित्त  
पाप प्रायश्चित्त 813 4  
प्रायश्चित्त 870 14 ⇌  
प्रायश्चित्त (दे.)  
प्रायश्चित्त 870 14  
प्रायश्चित्त करना  
प्रायश्चित्त करना 813 7 ⇌  
प्रायश्चित्त कर्ता  
प्रायश्चित्त कर्ता 813 13 ⇌  
प्रायश्चित्तप्रस्त  
प्रायश्चित्तपूर्ण 813 12  
प्रायश्चित्तपूर्ण  
प्रायश्चित्तपूर्ण 813 12 ⇌  
प्रायश्चित्ती  
प्रायश्चित्त कर्ता 813 13  
प्रायिक  
सामान्य 311 3  
प्रायिकता  
संभावितता 68 2  
सामान्यता 311 1  
प्रायोगिक  
प्रयोगात्मक 307 19  
प्रायोजक  
प्रायोजक 655 21 ⇌  
प्रायोजन  
प्रायोजन 655 4 ⇌  
प्रायोजना  
आरंभिक अवस्था सूची 994 23  
योजना 520 1  
प्रायोजित  
प्रायोजित 655 20 ⇌  
योजित 520 17  
प्रायोजित करना  
प्रायोजित करना 655 14 ⇌  
प्रायंभ  
आरंभ 994 3  
उपक्रम 521 4  
कार्य आरंभ 521 1  
प्रयत्न 489 1  
यवनिका उत्थान 606.2  
प्रायंभ कर्ता  
प्रवर्तक 693 14

प्रायंभण  
प्रवर्तन 693 3  
प्रायंभहीन  
आरंभहीन 37 8  
प्रायंभहीनता  
आरंभहीनता 37 2  
प्रायंभिक  
आदिम 63 7  
आरंभिक 994 16  
प्रायंभिकता  
आदिमता 63 2  
प्राचीनता 63 1  
प्रायंभिक शिक्षा  
साक्षरता 319 6  
प्रायंभित  
आरंभित 521 6  
प्रवर्तित 693 13  
प्रायंभ्य  
आरंभित 521 6  
प्रवर्तित 693 13  
प्रायंभ्य 260 1 ⇌  
प्रायंभ्य (दे.)  
पूर्व कर्मफल 260 9  
भाग्य 260 14  
प्रायंभ्य कथन  
प्रायंभ्य कथन 261 3 ⇌  
प्रायंभ्य क्रम  
भाग्य चक्र 260 15  
प्रायंभ्य बताना  
प्रायंभ्य बताना 261 41 ⇌  
प्रायंभ्य लिखित  
प्रायंभ्य लिखित 260.31 ⇌  
प्रायंभ्य लेख  
प्रायंभ्य लेख 260 6 ⇌  
प्रायंभ्य लेखक  
प्रायंभ्य विधाता 260 7  
प्रायंभ्य वक्ता  
प्रायंभ्य वक्ता 261 43 ⇌  
प्रायंभ्य वाचन  
प्रायंभ्य कथन 261 3  
प्रायंभ्यवाद  
प्रायंभ्यवाद 260 4 ⇌  
प्रायंभ्य वाद विरोध  
कर्तृत्ववाद 260 5  
प्रायंभ्यवादी  
प्रायंभ्यवादी 260.29 ⇌  
प्रायंभ्य विधाता  
प्रायंभ्य विधाता 260 7 ⇌  
प्रायंभ्यधीन  
प्रायंभ्यधीन 260.27 ⇌  
प्रायंभ्यधीनतः  
प्रायंभ्यधीनतः 260.35 ⇌  
प्रायंभ्यधीनता  
प्रायंभ्यधीनता 260.2 ⇌  
प्रायंभ्यधीन होना  
प्रायंभ्यधीन होना 260.20 ⇌  
प्रायंभ्यीय  
प्रायंभ्यीय 260 26 ⇌



<b>प्रारूप</b>	<b>प्रालेखक</b>	<b>प्रासाद</b>	<b>प्रियंबद [प्रियंबदा]</b>
आरम्भिक अवस्था सूची 994.23	प्रालेखक 520.20 ⇨	ऐश्वर्य भवन 602 12	प्रियभाषी 431 7
प्रारूप 520.8 ⇨	<b>प्रालेय</b>	दर्शक अलिद 471 5	<b>प्रियंबदा</b>
<b>प्राण</b>	हिम 90 1	दृश्यकक्ष 614 25	चमेली 14 16
ऋण त्रय 761 14	<b>प्रायधान</b>	महल 602 32	<b>प्रिय</b>
<b>प्रार्थना</b>	वैकल्पिक साधन 558 5	राज महल 602 34	घनिष्ठ 704.27
पूजा 751 1	<b>प्रायरण</b>	<b>प्रासाद गर्भ</b>	पति 803 5
पूजा गीत सूची 749 26	उत्तरीय 585 7	जनानखाना 614 20	पत्रारंभ स्वोद्यन आदि सूची 444 41
प्रार्थना 350 4 ⇨	<b>प्रायार</b>	<b>प्रास्थगन</b>	पसद 400 11
फरियाद 350.9	उद्गावन 593 3	स्थगन 495 2	प्रिय 369.7 ⇨
मगलारंभ गीत 796 13	भू प्रावार 9.10	<b>प्रिट</b>	प्रेमपात्र 369 4
याधिका 875 15	<b>प्रायासिक</b>	अनुलिपि प्रकार सूची 414 6	प्रेमी 368.2
<b>प्रार्थना (दे.)</b>	प्रवासीय 618 28	<b>प्रिट (अँ)</b>	मनोरजनपूर्ण 469 11
इच्छा 359 1	<b>प्रायिधिक</b>	फोटो प्रिट 405 6	रोचक 400 12
याचना 642 1	तकनीकी 514 15	मुद्रण छाप 419 6	हित 712 1
<b>प्रार्थना अस्वीकृति</b>	<b>प्राज्ञाज्य</b>	मुद्रित प्रति 419.8	<b>प्रियकर</b>
अननुमति 338 ८	आवारागर्दी 1090 3	सुलेख उपमान सूची 412 11	आनदप्रद 382 18
<b>प्रार्थना करना</b>	<b>प्राज्ञा</b>	<b>प्रिटर</b>	<b>प्रियकांक्षी</b>
प्रार्थना करना 350.11 ⇨	अवलेह 176 12	प्रिटर 413 6 ⇨	कल्याण कामी 710 23
<b>प्रार्थना कर्ता</b>	आस्यादन 275 6	प्रिटर 951.15 ⇨	<b>प्रियकाम</b>
प्रार्थी 350 18	आहार पदार्थ 186 1	<b>प्रिटर (अँ)</b>	कल्याण कामी 710 23
<b>प्रार्थना गीत</b>	<b>प्राज्ञान</b>	प्रिटर 951 15	<b>प्रिय कामना</b>
पूजा गीत 749 25	खिलाई 183 22	प्रिटर 413 6	कल्याण कामना 710 4
<b>प्रार्थना पत्र</b>	भोजन कर्म 181.4	मुद्रण कर्ता 419 2	<b>प्रियकारी</b>
प्रार्थना पत्र 350 5 ⇨	<b>प्राज्ञास्वय</b>	मुद्रण कर्मी 419 4	आनदप्रद 382 18
<b>प्रार्थना भंग</b>	विस्तीर्णता 981 1	<b>प्रिटर (अँ)</b>	हितकारी 712 13
अननुमति 338 3	<b>प्राज्ञित</b>	मुद्रणालय 419 5	<b>प्रियजन</b>
<b>प्रार्थना भवन</b>	प्राप्तभोजन 181 51	<b>प्रिटरिंग (अँ)</b>	रिश्तेदार 715 6
उपासनालय 745 13	भक्षित 181 62	मुद्रण 419 1	<b>प्रियतम</b>
<b>प्रार्थना स्वीकृति</b>	<b>प्राज्ञी</b>	<b>प्रिटरिंग बूक (अँ)</b>	प्रेमपात्र 369 4
अनुमति 337 5	भक्षक 181 53	मुद्रण रगव्य 290 16	प्रेमी 368 2
<b>प्रार्थयिता</b>	<b>प्राज्ञिनक</b>	<b>प्रिटरिंग प्रेस (अँ)</b>	<b>प्रियतमा</b>
प्रार्थी 350 18	रिचजर 333 27	मुद्रणालय 419 5	पत्नी 803 6
<b>प्रार्थित</b>	नाट्य सिद्धि निर्णायक 468.31	<b>प्रिटरिंग मशीन (अँ)</b>	प्रेमपात्रा 369 5
प्रार्थित 350 17 ⇨	प्रश्न कर्ता 333 24	मुद्रण यत्र 419 10	प्रेमिका 368 3
याधित 642.18	प्रश्नात्मक 333 22	<b>प्रिटरिड (अँ)</b>	<b>प्रियता</b>
<b>प्रार्थी</b>	विवाचक पद्य 877 7	मुद्रित 419 13	घनिष्ठता 704 13
अभियोक्ता 875 5	सभा संचालक 694 20	<b>प्रिसिपल (अँ)</b>	प्रियता 369.1 ⇨
पद आवेदक 653 31	साक्षी 876 13	प्रधान अध्यापक 323 15	प्रेमपात्रता 369 3
प्रार्थी 350.18 ⇨	<b>प्रासंग</b>	<b>प्रिज्म</b>	मित्रता 705.1
फरियादी 350.22	तराजू 962 9	प्रिज्म 289.6 ⇨	<b>प्रियदशा</b>
<b>प्रार्थी (दे.)</b>	तराजू डंडा 962 21	<b>प्रिज्म (अँ)</b>	धर्माथ भूमि 553 7
याचक 642 19	तराजू पासग 962.25	प्रिज्म 289 6	<b>प्रियदर्शनता</b>
<b>प्रालंब</b>	<b>प्रासंगिक</b>	<b>प्रिमाइज (अँ)</b>	सुंदरता 157 1
प्रलंबित 1024 10	अप्रधान 853.9	तर्काधार 325 7	<b>प्रियदर्शी</b>
प्रालंब 1024.3 ⇨	अवसरानुकूल 70.14	<b>प्रियक [प्रियका]</b>	न्यायप्रिय 874.36
<b>प्रालंबक</b>	आकस्मिक 69.10	आनदप्रद 382 18	<b>प्रियदर्शी [प्रियदर्शिणी]</b>
प्रलंबक 1024 12	उपमेय 309 9	कल्याणकारी 710.21	सुंदर 157 7
<b>प्रालंबन</b>	सगत 438 6	प्रसन्नताप्रद 381 9	<b>प्रियधन्या</b>
प्रालंबन 1024.1	<b>प्रासंगिकता</b>	<b>प्रियकर</b>	शिय 767 1
<b>प्रालंबन: छल्ला</b>	अवसरानुकूलता 70.2	आनदप्रद 382 18	<b>प्रिय पात्रता</b>
प्रालंबन: छल्ला 1016.31 ⇨	सगतता 438.1	कल्याणकारी 710 21	प्रियता 369 1
<b>प्रालंबन सूची</b>	<b>प्रास</b>	पुरुष मित्र 705.2	<b>प्रिय पुत्र</b>
प्रालंबन सूची 1024.5 ⇨	अनुप्रास अलंकार 454 9	प्रसन्नताप्रद 381 9	प्रिय पुत्र 718.7 ⇨
<b>प्रालंब सूची</b>	प्रक्षेप 1052.1	<b>प्रियगु</b>	<b>प्रिय पुत्री</b>
प्रालंब सूची 1024.4 ⇨	<b>प्रासन</b>	पीपल 13 14	प्रिय पुत्री 718 11 ⇨
<b>प्रालेख</b>	प्रक्षेपण 1052.2	<b>प्रियंबद</b>	<b>प्रियभाषी</b>
प्रालेख 520.10 ⇨		घरखी 126.35	प्रियभाषी 431.7 ⇨

## प्रियभाषी [प्रियभाषिणी]

प्रियभाषी [प्रियभाषिणी]  
 प्रियभाषी 431.7  
 प्रियमधु  
 बलराम 771.74  
 प्रिय मिलन  
 प्रिय संयोग 389.3  
 प्रिय मिलन स्थल  
 अनिसार स्थल 237.2  
 प्रिय वचन  
 प्रिय वचन 431.2 ⇌  
 प्रियवर  
 प्रेमपात्र 369.4  
 प्रियवरा  
 प्रेमपात्रा 369.5  
 प्रिय वस्तु  
 प्रिय वस्तु 369.2 ⇌  
 प्रियवादी [प्रियवादिनी]  
 प्रियभाषी 431.7  
 प्रिय वियोग  
 प्रिय वियोग 388.3 ⇌  
 प्रिय संगमन  
 अनिसार 237.1  
 प्रिय संदेश  
 सुसमाचार 440.2  
 प्रिय संबंध  
 विवाह संबंध 724.1  
 प्रिय संयुक्ता  
 संयोगिनी 389.11  
 प्रिय संयोग  
 प्रिय संयोग 389.3 ⇌  
 प्रिय संयोग होना  
 प्रिय संयोग होना 389.7 ⇌  
 प्रिय संयोगित  
 संयोगी 389.10  
 प्रिय सत्य  
 प्रिय सत्य 820.7 ⇌  
 प्रिय से मिलना  
 प्रिय संयोग होना 389.7  
 प्रिय होना  
 प्रिय होना 389.6 ⇌  
 प्रियांबु  
 आम वृक्ष 13.5  
 प्रिया  
 धमेली 14.16  
 पत्नी 803.6  
 प्रेमपात्रा 369.5  
 प्रेमिका 368.3  
 प्रियाख्यान  
 सुसमाचार 440.2  
 प्रियातिथि  
 सत्कर्ता 184.7  
 प्रियाई  
 प्रेम योग 368.18  
 प्रियाला  
 किशमिश 191.5  
 प्रियैषी  
 कल्याण कानी 710.23

प्रियोक्ति  
 चाटुक्ति 841.16  
 प्रीत  
 प्रेम 368.1  
 प्रीतम  
 पति 803.5  
 प्रेमपात्र 369.4  
 प्रेमी 368.2  
 प्रीति  
 कामदेव पत्नी सूची 773.14  
 कृतिका सूची 774.31  
 चंद्र कला सूची 8.4  
 दया 834.1  
 प्रसन्नता 381.1  
 प्रीति 774.54 ⇌  
 प्रेम 368.1  
 प्रीतिकर  
 आनंदप्रद 382.18  
 प्रसन्नताप्रद 381.9  
 प्रेम वर्धक 368.20  
 प्रीतिकारी  
 आनंदप्रद 382.18  
 प्रसन्नताप्रद 381.9  
 प्रेम वर्धक 368.20  
 प्रीतिवद  
 आनंदप्रद 382.18  
 प्रेम वर्धक 368.20  
 प्रीतिवत्त  
 कन्याघन 802.1  
 प्रीति वान  
 प्रेम उपहार 640.4  
 प्रीति वाय  
 प्रेम उपहार 640.4  
 प्रीतिपात्र  
 प्रेमपात्र 369.4  
 प्रीतिभोज  
 सहभोज 183.4  
 प्रीतिमय  
 प्रेमपूर्ण 368.17  
 प्रीति रीति  
 परस्पर निर्वाह 703.3  
 प्रीति वर्धक  
 प्रेम वर्धक 368.20  
 विष्णु 768.1  
 प्रीतियर्धन  
 प्रेम वर्धक 368.20  
 प्रीति विवाह  
 प्रेम विवाह 799.16  
 प्रीतियर (औं)  
 प्रीतियर शो 468.6 ⇌  
 प्रीतियर शो (औं)  
 प्रीतियर शो 468.6  
 प्रीस्ट (औं)  
 ईसाई धर्मिकरी समष्टि रूप 744.28  
 प्रीस्ट वाद  
 पुरोहितवाद 760.19

प्रीहिस्टर्री (औं)  
 प्रागितिहास 76.3  
 प्रूक (औं)  
 प्रमाण 876.21  
 प्रूक शीट 413.26  
 प्रूक (औं)  
 रोधक 920.22  
 प्रूक रीडर  
 प्रूक रीडर 413.24 ⇌  
 प्रूक रीडर (औं)  
 प्रूक रीडर 413.24  
 प्रूक रीडिंग  
 प्रूक रीडिंग 413.23 ⇌  
 प्रूक रीडिंग (औं)  
 प्रूक रीडिंग 413.23  
 प्रूक वाचन  
 प्रूक रीडिंग 413.23  
 प्रूक शीट  
 प्रूक शीट 413.26 ⇌  
 प्रूक शीट (औं)  
 प्रूक शीट 413.26  
 प्रूक शोधक  
 प्रूक रीडर 413.24  
 प्रूक संशोधक  
 प्रूक रीडर 413.24  
 प्रूक संशोधन  
 प्रूक रीडिंग 413.23  
 प्रूकिंग (औं)  
 रोधन 928.5  
 प्रूकड (औं)  
 रोधित 920.21  
 प्रेंख  
 झूला 1034.3  
 प्रालंबन: छल्ला 1016.31  
 प्रेंखण  
 झूलन 1034.1  
 प्रेंखा  
 झूला 1034.3  
 परिधि चक्रण 1033.2  
 प्रेक्षक  
 अवलोकक 284.48  
 दर्शक 399.4  
 प्रेक्षक 284.28 ⇌  
 प्रेक्षण  
 अवलोकन 284.1  
 प्रेक्षण 284.25 ⇌  
 प्रेक्षा  
 शो 468.5  
 संरक्षा 908.3  
 प्रेक्षागार  
 प्रेक्षागार 471.1 ⇌  
 प्रेक्षागृह  
 प्रेक्षागार 471.1  
 प्रेक्षा स्थान  
 स्टेडियम 482.19  
 प्रेक्षित  
 अवलोकित 284.47

प्रेक्ष्य  
 दर्शनीय 400.13  
 विचारणीय 330.20  
 प्रेत  
 भूत 786.1  
 प्रेत उतारना  
 भूत उतारना 759.18  
 प्रेत कर्म  
 भूतक संस्कार 253.1  
 प्रेत कर्म कराने वाला ब्राह्मण  
 अंतिम संस्कार कर्ता ब्राह्मण 731.15  
 प्रेतगत  
 भूत 249.23  
 प्रेतग्रस्त  
 भूत बाधाग्रस्त 759.21  
 प्रेतग्रस्तता  
 भूत बाधा 759.7  
 प्रेत छाया  
 भूत बाधा 759.7  
 प्रेतत्व भूत पूर्वज  
 पितृ 253.26  
 प्रेत देह  
 सूक्ष्म शरीर 139.2  
 प्रेत नदी  
 वैतरणी 256.4  
 प्रेतनाथ  
 यमराज 256.1  
 प्रेत निवारण  
 भूत निवारण 759.8  
 प्रेतनी  
 भूतनी 786.2  
 प्रेत पट  
 कफन 254.5  
 प्रेतपुरी  
 यम नगर 256.5  
 प्रेत बाधा  
 भूत बाधा 759.7  
 प्रेत भूमि  
 रमशान 254.9  
 प्रेतमय [प्रेतमयी]  
 भूतहा [भूतही] 759.20  
 प्रेत योनि प्राप्त ब्राह्मण  
 ब्रह्म पिशाच 786.10  
 प्रेतराज  
 यमराज 256.1  
 प्रेत लीला  
 रमशान दीप्ति 287.19  
 प्रेत वन  
 रमशान 254.9  
 प्रेत साधक  
 प्रेत साधक 759.13 ⇌  
 प्रेतांगना  
 भूतनी 786.2  
 प्रेतात्मा  
 भूत 786.1  
 प्रेतावेश  
 भूत बाधा 759.7

तावीच  
मरण अशीच 198.9  
ति  
विमान उडान 1081.11  
तिल  
भुतहा [भुतही] 759.20  
तिलता  
भुतहापन 759.6  
तीय  
भूत विषयक 786.14  
तेरा  
यमराज 256.1  
त्यजाति  
पुनर्जन्म 248.7  
तेवा  
इंद्र 773.5  
वायु 85.1  
रेप्सा  
लालसा 359.5  
रेप्सु  
लालसी 359.29  
प्रेम  
आसक्ति 365.1  
दया 834.1  
प्रेम 368.1 ⇌  
प्रेम भाव 752.15  
वात्सल्य 721.1  
स्नेह 368.10  
प्रेम अगाधा  
राधा 771.83  
प्रेम: उत्कटता  
प्रेमासक्ति 368.8  
प्रेम उपहार  
प्रेम उपहार 640.4 ⇌  
प्रेम कथा  
प्रेम कथा 450.4 ⇌  
प्रेम करना  
प्रेम करना 368.13 ⇌  
प्रेम कर्ता  
प्रेम कर्ता 368.19 ⇌  
प्रेम कलह  
प्रणय कलह 374.3  
प्रेम कहानी  
प्रेम कथा 450.4  
प्रेम गाथा  
प्रेम कथा 450.4  
प्रेम पगा  
प्रेमपूर्ण 368.17  
प्रेम पत्र  
आरोप पत्र 875.8  
प्रेमपात्र  
प्रेमपात्र 369.4 ⇌  
प्रेमपात्रता  
प्रेमपात्रता 369.3 ⇌  
प्रेमपात्रा  
नायिका 467.10  
प्रेमपात्रा 369.5 ⇌

प्रेम पाषा  
आलिंगन 237.8  
प्रेम पिपासा  
प्रेमासक्ति 368.8  
प्रेम पुजारिन  
प्रेमिका 368.3  
प्रेम पुजारी  
प्रेमी 368.2  
प्रेमपूर्ण  
प्रेमपूर्ण 368.17 ⇌  
मित्रतापूर्ण 705.28  
स्नेहपूर्ण 368.23  
प्रेम प्रतिद्विंद्विनी  
प्रेम प्रतिद्विंद्विनी 368.5 ⇌  
प्रेम प्रतिद्विंद्वी  
प्रेम प्रतिद्विंद्वी 368.4 ⇌  
प्रेम प्रवण  
प्रेम प्रवण 368.22 ⇌  
प्रेम प्रसंग  
रोमास 368.9  
प्रेमबद्धता  
प्रेमासक्ति 368.8  
प्रेमबाण  
कामबाण 773.16  
प्रेम भाव  
प्रेम भाव 752.15 ⇌  
मित्रता 705.1  
प्रेममय  
प्रेमपूर्ण 368.17  
प्रेम योग्य  
प्रेम योग्य 368.18 ⇌  
प्रेम रस  
शृंगार रस 455.20  
प्रेमराता [प्रेमराती]  
प्रेमासक्त 368.21  
प्रेमल  
प्रेमपूर्ण 368.17  
प्रेमलीन  
प्रेमासक्त 368.21  
प्रेमवती  
पत्नी 803.6  
प्रेम वर्धक  
प्रेम वर्धक 368.20 ⇌  
प्रेमवाद  
सूफी मत 736.12  
प्रेमवान [प्रेमवती]  
प्रेमासक्त 368.21  
प्रेम विवाह  
गांधर्व विवाह 799.23  
गुप्त विवाह 799.17  
प्रेम विवाह 799.16 ⇌  
प्रेमशय्या  
मधुशय्या 802.17  
प्रेमशर  
कामबाण 773.16  
प्रेम संबंध  
विवाह संबंध 724.1

प्रेमसिक्त  
प्रेमपूर्ण 368.17  
प्रेम होना  
प्रेम होना 368.12 ⇌  
प्रेमांध  
प्रेमासक्त 368.21  
प्रेमांधता  
प्रेमासक्ति 368.8  
प्रेमा  
प्रेमपात्रा 369.5  
प्रेमातिरेक  
प्रेमासक्ति 368.8  
प्रेमानुरक्त  
प्रेमासक्त 368.21  
प्रेमानुरक्त करना  
प्रेमानुरक्त करना 368.14 ⇌  
प्रेमानुरक्त होना  
प्रेम होना 368.12  
प्रेमालिंगन  
आलिंगन 237.8  
प्रेमासक्त  
प्रेमासक्त 368.21 ⇌  
प्रेमासक्त होना  
प्रेमासक्त होना 368.15 ⇌  
प्रेमासक्ति  
प्रेमासक्ति 368.8 ⇌  
प्रेमिका  
अनुका नायिका 456.14  
परकीया नायिका 456.12  
प्रेमपात्रा 369.5  
प्रेमिका 368.3 ⇌  
प्रेमिका (दे.)  
पत्नी 803.6  
प्रेमिल  
स्नेहपूर्ण 368.23  
स्नेही 368.24  
प्रेमी  
प्रेमपात्र 369.4  
प्रेमी 368.2 ⇌  
स्नेही 368.24  
प्रेमी (दे.)  
पति 803.5  
प्रेमी जीव  
प्रेम प्रवण 368.22  
प्रेमी नायक  
प्रेमी नायक 467.6 ⇌  
प्रेमी प्रेमिका: संयुक्त गीत  
युगल गीत 451.26  
प्रेमेय  
प्रतिपाद्य 326.15  
प्रेमोत्पादक  
प्रेम वर्धक 368.20  
प्रेमोन्मत्त  
प्रेमासक्त 368.21  
प्रेमोपहार  
प्रेम उपहार 640.4  
प्रेय  
इच्छित 359.19

प्रिय 369.7  
प्रेम योग्य 368.18  
रोचक 400.12  
स्वीकार्य 337.17  
प्रेयस  
प्रिय 369.7  
प्रेयसी  
प्रेमपात्रा 369.5  
प्रेमिका 368.3  
प्रेरक  
उत्प्रेरक 499.9  
ऊर्जायक 101.15  
गत्वरण कर्ता 1046.22  
प्रणोदक 1051.33  
प्रणोदयिता 1051.34  
सखल कर्ता 1037.21  
प्रेरण  
उत्प्रेरण 499.2  
चालन 1046.2  
प्रक्षेपण 1052.2  
प्रणोदन 1051.1  
प्रवर्तन 693.3  
प्रेरणा  
अतरात्मा आदेश 351.5  
ईश्वरीय सदेश 443.6  
कल्पना 308.1  
प्रेरणा 499.1 ⇌  
प्रेरणा आना  
कल्पना मे आना 308.11  
प्रेरणाजन्य  
प्रेरणाजन्य 499.7 ⇌  
प्रेरणा देना  
उत्प्रेरित करना 499.5  
प्रेरणाप्रद  
उत्प्रेरक 499.9  
प्रेरणा प्रदान  
उत्प्रेरण 499.2  
प्रेरयिता  
प्रणोदयिता 1051.34  
प्रेरित  
उत्प्रेरित 499.8  
गत्वरित 1046.21  
प्रणोदित 1051.32  
प्रतिभाशाली 301.27  
प्रेरित करना  
उत्प्रेरित करना 499.5  
प्रेषक  
प्रेषक 1054.16 ⇌  
प्रेषण  
प्रेषण 1054.1 ⇌  
प्रेषण कर्ता  
प्रेषक 1054.16  
प्रेषण पत्र  
जावक पत्र 1054.7  
प्रेषित  
प्रेषित 1054.14 ⇌  
प्रेषित करना  
भेजना 1054.10

## प्रेषित समाचार

**प्रेषित समाचार**  
प्रेषित समाचार 445 18 ⇨

**प्रेषित सामान**  
प्रेषित सामान 666.4 ⇨

**प्रेषिति**  
जावक 1054 6

**प्रेषिती**  
प्रेषिती 1054 15 ⇨

**प्रेषिटस (अं)**  
आरम्भिक अभ्यास 303 6

**प्रेषिडेंट (अं)**  
राष्ट्रपति 882 2  
सभापति 694 18

**प्रेषिडेंट्स हाउस (अं)**  
राष्ट्रपति भवन 602 35

**प्रेष**  
भूत विषयक 786 14

**प्रेषार कुकर**  
प्रेषार कुकर 682 19 ⇨

**प्रेषार कुकर (अं)**  
प्रेषार कुकर 682 19

**प्रेषार कुकिंग**  
प्रेषार कुकिंग 195 37 ⇨

**प्रेषार कुकिंग (अं)**  
प्रेषार कुकिंग 195 37

**प्रेषार कुक्कर (अं)**  
पाक भाड सूची 682 2

**प्रेष**  
दबाई 989 5  
मुद्रण यंत्र 419 10

**प्रेस (अं)**  
इस्तिरी 220 20  
पत्रकारिता 445 7  
मुद्रण यंत्र 419 10  
मुद्रणालय 419 5

**प्रेस कानफ्रेंस (अं)**  
समाचार सम्मेलन 445 19

**प्रेस नोट (अं)**  
समाचार विज्ञप्ति 445 21

**प्रेस रिपोर्ट (अं)**  
सवाददाता 445 22

**प्रेस रिस्लीज़ (अं)**  
समाचार विज्ञप्ति 445 21

**प्रेस वर्कर (अं)**  
मुद्रण कर्मी 419 3

**प्रेस विज्ञप्ति**  
समाचार विज्ञप्ति 445 21

**प्रेस स्टेटमेंट (अं)**  
समाचार विज्ञप्ति 445 21

**प्रेसिंग (अं)**  
दबाई 989 5

**प्रेस्विटर (अं)**  
ईसाई धर्मचिकिरी समष्टि सदस्य 744 28  
पादरी 744 29

**प्रीछ**  
पोछाई 218 6

**प्रोग्राम**  
प्रोग्राम 951 24 ⇨

**प्रोग्राम (अं)**  
कार्यक्रम 520 4  
प्रोग्राम 951 24

**प्रोज़ पोएट्री (अं)**  
काव्यात्मक गद्य 451 3

**प्रोजेक्टर**  
प्रोजेक्टर 470.8 ⇨

**प्रोजेक्टर (अं)**  
प्रोजेक्टर 470 8

**प्रोजेक्शन (अं)**  
परिकल्प प्रदर्शन 520 7

**प्रोजेक्शन कर्ता**  
प्रोजेक्शन कर्ता 470 7 ⇨

**प्रोजेक्शनिस्ट (अं)**  
प्रोजेक्शन कर्ता 470 7

**प्रोटीन**  
प्रोटीन 179.13 ⇨

**प्रोटीन (अं)**  
प्रोटीन 179 13

**प्रोटैस्टेंटवाद**  
प्रोटैस्टेंट मत 736 22

**प्रोटैस्टेंट (अं)**  
प्रोटैस्टेंट मतावलंबी 736 23

**प्रोटैस्टेंट पादरी**  
रेक्टर 744 35

**प्रोटैस्टेंट मत**  
प्रोटैस्टेंट मत 736 22 ⇨

**प्रोटैस्टेंट मतावलंबी**  
प्रोटैस्टेंट मतावलंबी 736.23 ⇨

**प्रोटैस्टेंट रिफ़ॉर्मेशन: नेता**  
लुथर 791 26

**प्रोटोकॉल (अं)**  
प्रथाक्रम 991 11

**प्रोटोटाइप (अं)**  
आद्य प्रारूप 520 9

**प्रोटोन**  
प्रोटोन 78 17 ⇨

**प्रोटोन (अं)**  
प्रोटोन 78 17

**प्रोटोप्लाज़्म (अं)**  
प्लाज्मा 129 5

**प्रोड्यूसर (अं)**  
फिल्म निर्माता 470 4

**प्रोत्**  
पिरा [पिरी] 573 18  
प्रसारित 979 17  
बाना 576 9  
सिला [सिली] 577 28  
सूत्रबद्ध 573 17

**प्रोत्कठ**  
आतुर 496 11

**प्रोत्कर्षण**  
ऊर्ध्व कर्षण 1062 13

**प्रोत्कर्षित**  
ऊर्ध्व कर्षित 1062 36

**प्रोत्तंभक**  
जैक 1062 11  
प्रोत्तंभक 1062.33 ⇨

**प्रोत्तंभक कर्ता**  
प्रोत्तंभक 1062 33

**प्रोत्तंभन**  
प्रोत्तंभन 1062.10 ⇨

**प्रोत्तंभन करना**  
प्रोत्तंभन करना 1062 25 ⇨

**प्रोत्तंभयिता**  
प्रोत्तंभक 1062 33

**प्रोत्तंभित्र**  
जैक 1062 11

**प्रोत्तुंग**  
अत्युच्च 982 10  
उच्च 982 7

**प्रोत्तेजन**  
अग्नि उदीपन 107 4

**प्रोत्तेजित**  
उदीप्त (अग्नि) 107 14

**प्रोत्थापक**  
प्रोत्थापक 1062 32 ⇨  
लिफ्ट 1062 7

**प्रोत्थापन**  
प्रोत्थापन 1062 5 ⇨

**प्रोत्थापन करना**  
प्रोत्थापन करना 1062 24 ⇨

**प्रोत्थापित**  
प्रोत्थापित 1062 31 ⇨

**प्रोत्थापित्र (प्र)**  
लिफ्ट 1062 7

**प्रोत्थित**  
प्रोत्थापित 1062 31  
प्रोद्गत 988 10

**प्रोत्कुल्ल**  
प्रस्फुटित 119 10

**प्रोत्सारण**  
उत्सारण 1059 12

**प्रोत्साहक**  
उत्प्रेरक 499 9

**प्रोत्साहन**  
उत्प्रेरण 499 2  
शाबाशी 841 21

**प्रोत्साहन देना**  
उत्प्रेरित करना 499 5

**प्रोत्साहित**  
उत्प्रेरित 499 8

**प्रोत्साहित करना**  
उत्प्रेरित करना 499 5  
ताली बजाना 296 23

**प्रोथ**  
नल टोटी 19 28  
निताब 148 13

**प्रोथी**  
घोड़ा 127 35

**प्रोथीन (प्र)**  
प्रोटीन 179 13

**प्रोथुजिन**  
प्रोटीन 179 13

**प्रोदर [प्रोदरा]**  
उन्नतोदर 158 29

**प्रोद्गत**  
प्रोद्गत 988.10 ⇨

**प्रोद्गतता**  
प्रोद्गतता 988 2 ⇨

**प्रोद्गत होना**  
प्रोद्गत होना 988.7 ⇨

**प्रोद्घोष**  
सबल कथन 430 2

**प्रोद्घोषक**  
घोषक 441 23

**प्रोद्दीपक**  
अग्नि प्रोद्दीपक 107 15

**प्रोद्दीपन**  
अग्नि उदीपन 107 4

**प्रोद्दीप्त**  
उदीप्त (अग्नि) 107 14

**प्रोद्भयन**  
अकुरण 117 1

**प्रोद्यत**  
उच्च 982 7

**प्रोनेट (अं)**  
ऋण पत्र सूची 633 15

**प्रोन्नत**  
उत्तम 313 13  
उन्नत 534 10

**प्रोन्नल (अं)**  
पार्श्व चित्र 404 16

**प्रोनेट (अं)**  
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 623 15

**प्रोवेविलिटी (अं)**  
सभावितता 68 2

**प्रोलोग (अं)**  
पूर्व पीठिका 466 17

**प्रोल्का**  
राकेट 927 19

**प्रोषण**  
पूर्ण दहन 108 2

**प्रोषित [प्रोषिता]**  
प्रवासी 618 29

**प्रोषितपतिका**  
प्रोषितपतिका नायिका 456 11  
दियोगिनी 388 9

**प्रोषितपतिका नायिका**  
प्रोषितपतिका नायिका 456.11 ⇨

**प्रोषितभर्तृका**  
प्रोषितपतिका नायिका 456 11

**प्रोष**  
बैद्य 595 28  
स्दूल 595 32

**प्रोषपद**  
भाद्रपद 43 12

**प्रोषी**  
शफरी 125 12

**प्रोष्या**  
अति उष्ण 104 20

**प्रौष्ट (अं)**  
क्यू 465.9

<b>प्रीक</b>	<b>प्रीविज्ञो (अँ)</b>	<b>प्लान्टेशन (अँ)</b>	<b>प्लीट (अँ)</b>
अनुभवी 303 17	परतुक 339 10	प्लान्टेशन 551 5	घुन्नट 975 1
पक्व (वनस्पति) 118 19	<b>प्रीविहंट फ्रेंड (अँ)</b>	<b>प्लार्डबुड</b>	प्लीट 975 6
प्रवीण 303.22	भविष्य निधि 643 34	प्लार्डबुड 990 10 ⇐	<b>प्लीटिड (अँ)</b>
<b>प्रीक</b>	<b>प्रीसीनियम (अँ)</b>	प्लार्डबुड (अँ)	घुन्नटदार 975.25
यिवाहित 799.64	मंघ्रा 471.15	प्लार्डबुड 990 10	<b>प्लीहा</b>
<b>प्रीक [प्रीका]</b>	<b>प्रीसीशन (अँ)</b>	प्लार्डबुड (अँ)	प्लीहा 132 16 ⇐
ययस्क 229 21	जुलूस 1088 7	प्लार्डमा (अँ)	<b>प्लुत</b>
<b>प्रीक अवस्था</b>	<b>प्रीसीस (अँ)</b>	प्लार्डमा 129 5	अति आर्द्र 88.28
ययस्कता 229 13	प्रक्रिया 514 5	प्लान (अँ)	उछला [उछली] 1030 29
<b>प्रीकता</b>	प्रसंस्कार 527.6	निर्माण परिकल्पना 599 15	ताल मात्रा प्रकार सूची 458 35
प्रवीणता 303 8	<b>प्रोस्टेट ग्लैंड (अँ)</b>	<b>प्लानर (अँ)</b>	<b>प्लुतक</b>
ययस्कता 229 13	पोरुषिद 132.13	योजना निर्माता 520 3	सेतुबध नौका 1072 33
<b>प्रीकधी</b>	<b>प्लंब (अँ)</b>	<b>प्लानिंग (अँ)</b>	<b>प्लुतगति</b>
प्रीकधी 301 25 ⇐	साहुल 559 52	योजना निर्माण 520 2	खरगोश 127 63
<b>प्रीकधी (दे.)</b>	<b>प्लक्ष</b>	<b>प्लाय</b>	<b>प्लुत मात्रा</b>
अति अनुभवी 303 18	पूष्ठ द्वार 608 6	उँडलाव 1032 4	प्लुत मात्रा 410.17 ⇐
<b>प्रीकन</b>	<b>प्लक्षजाता</b>	डुबकी 1031 10	<b>प्लुत मात्रा चिह्न</b>
पक्वन 195.41	सरस्वती 20 24	प्रवाह 1041.1	प्लुत मात्रा चिह्न 410.18 ⇐
वनस्पति पक्वन 118 7	<b>प्लक्ष द्वीप</b>	बाढ़ 22 1	<b>प्लुति</b>
<b>प्रीकडा</b>	पौराणिक महाद्वीप सूची 26.7	<b>प्लायक</b>	अश्वगति सूची 1084.24
प्रगल्भा नायिका 456.10	<b>प्लग</b>	जलायतारक 1080 44	उँडलाव 1032.4
<b>प्रीपराइटर (अँ)</b>	प्लग 102 12 ⇐	<b>प्लायन</b>	उछालन 1052 7
स्वामी 621 2	<b>प्लग (अँ)</b>	जल अवतारण 1080.9	कूद 1086 3
<b>प्रीपटी (अँ)</b>	प्लग 102 12	जल प्रलय 530 2	हुत गति 1044 2
मघ सामग्री 471.19	<b>प्लयंगम</b>	प्रवाहन 1041.3	<b>प्लूटो (अँ)</b>
<b>प्रीपटी टैक्स (अँ)</b>	बदर 127 86	<b>प्लबा (प्र)</b>	कुबेर ग्रह 7 13
सपत्ति कर 647 7	<b>प्लय</b>	लाया 99 2	<b>प्ले (अँ)</b>
<b>प्रीप्लान (अँ)</b>	उछालन 1052 7	<b>प्लबाहित</b>	नाटक आलेख 466 4
प्रणोदन 1051 1	कारंडव 126 19	जलायतरित 1080 43	मघ नाटक 463.1
विमान प्रणोदन 1081.30	जलपक्षी 126 6	प्रवाहित 1041 7	<b>प्लेग</b>
<b>प्रीपेगडा (अँ)</b>	नौका 1072.2	बाढ़ग्रस्त 22 6	प्लेग 163.8 ⇐
प्रचार 442.1	बाढ़ 22 1	सिंचित 548.55	<b>प्लेग (अँ)</b>
<b>प्रीपेलर</b>	बाढ़ 22 1	<b>प्लायी</b>	प्लेग 163 8
प्रीपेलर 1073.3 ⇐	मुर्गावी 126 66	तरणशील 483 27	<b>प्लेग्राउंड (अँ)</b>
प्रीपेलर 1078.17 ⇐	लाया 99 2	व्यापक 981 12	खेल मैदान 482 10
<b>प्रीपेलर (अँ)</b>	<b>प्लयक</b>	<b>प्लायी हिम</b>	<b>प्लेट</b>
प्रीपेलर 1073 3	उछलने वाला 1030 30	प्लायी हिम शैल 90 7	प्लेट 685.3 ⇐
प्रीपेलर 1078 17	तैराक 483.2	<b>प्लायी हिम शैल 90.7 ⇐</b>	<b>प्लेट (अँ)</b>
विमान पखा 1074 23	<b>प्लयग</b>	<b>प्लाय्या</b>	चाय काफी बरतन सूची 680.20
<b>प्रीफिशन (अँ)</b>	अरुण 777.14	प्लाय्या 129.5 ⇐	डिनर सैट सूची 680.21
व्ययसाय 650.9	मैंढक 124.2	<b>प्लाय्या (प्र)</b>	धातु पटल 990.17
<b>प्रीफिशनल (अँ)</b>	शिरीष 13 21	प्लाय्या 129.5	पैलेट 404.34
पेशेवर कलाकार 397 18	<b>प्लयन</b>	<b>प्लायस</b>	प्लेट 685 3
व्ययसायी 650 24	उड्डयन 1030 11	प्लायस 559 45 ⇐	मुद्रण ब्लीक 419 11
<b>प्रीफिसर (अँ)</b>	तरण 483 20	<b>प्लायस्टर आक्र पैरिस</b>	<b>प्लेटफार्म (अँ)</b>
प्राध्यापक 323.16	प्रवहन 1041 2	प्लायस्टर आक्र पैरिस 100 19 ⇐	आधार सूची 596 2
विद्वान 319.8	<b>प्लयनशील</b>	<b>प्लायस्टर आक्र पैरिस (अँ)</b>	रेलवे प्लेटफार्म 1089.5
<b>प्रीमिज़ (अँ)</b>	तरणशील 483.27	प्लायस्टर आक्र पैरिस 100.19	<b>प्लेटिंग</b>
वचन 339 15	<b>प्लव सिंचन</b>	<b>प्लायस्टिक</b>	प्लेटिंग 292.9 ⇐
<b>प्रीमिसर (अँ)</b>	प्लव सिंचन 548.14 ⇐	प्लायस्टिक 581 1 ⇐	<b>प्लेटिंग (अँ)</b>
वचन दाता 339 41	<b>प्लवित</b>	<b>प्लायस्टिक (अँ)</b>	प्लेटिंग 292.9
<b>प्रीमिसरी नोट (अँ)</b>	प्रवाहित 1041.7	प्लायस्टिक 581.1	<b>प्लेबिक सिंगर (अँ)</b>
ऋण पत्र सूची 633.15	<b>प्लवितता</b>	<b>प्लायस्तर</b>	पार्श्व गायक 460.28
<b>प्रीमिस्ती (अँ)</b>	उछलने वाला 1030.30	घेपव्य सूची 1012.4	<b>प्लेबिक सिंगिंग (अँ)</b>
वचन ग्रहीता 339 42	<b>प्लॉट (अँ)</b>	<b>प्लीट</b>	पार्श्व गायन 460.27
<b>प्रीमेनेड (अँ)</b>	संयंत्र 558.13	प्लीट 975.6 ⇐	<b>प्लेस (अँ)</b>
विचरण मार्ग 1063.17	<b>प्लॉटेशन</b>		आवास चौक 619.4
	प्लॉटेशन 551.5 ⇐		

## प्लेसमेंट एजेंसी (अं)

महत्त्वा 819.6  
 प्लेसमेंट एजेंसी (अं)  
 रोजगार एजेंसी 850.3  
 प्ले स्कूल (अं)  
 शिक्षालय सूची 321.11  
 प्लेहाउस (अं)  
 नाट्यशाला 471.12  
 प्लेक्सीग्लास  
 प्लेक्सीग्लास 581.3 ⇨  
 प्लेक्सीग्लास (अं)  
 प्लेक्सीग्लास 581.3  
 प्लेटफार्म (अं)  
 घबूतरा 810.6  
 प्लेटफार्म (अं)  
 मद्य 895.12  
 प्लेटीनम  
 प्लेटीनम 94.11 ⇨  
 प्लेटून (अं)  
 पलटन 932.26  
 प्लेनिट (अं)  
 ग्रह 7.2  
 प्लेनिटेरियम (अं)  
 तारांगण 1.8  
 प्लोत  
 ब्रण पट्टी 174.16  
 प्लोषण  
 दहन 108.1  
 पूर्ण दहन 108.2  
 प्लोषित  
 पूर्ण दग्ध 108.16  
 प्लोच (अं)  
 आणसीय भूखंड 598.3  
 कथानक 466.11  
 प्लॉट (अं)  
 पाईट 102.11

## फ

फंका  
 फंकी 181.30  
 फंकाई  
 फंकाई 181.23 ⇨  
 फंकी  
 फंकाई 181.23  
 फंकी 181.30 ⇨  
 फंके  
 सर्प 123.10  
 फंके (अं)  
 निधि 628.5  
 फंकार्मिस्ट (अं)  
 आदि सिद्धांतवादी 343.20  
 फंके  
 छल 827.7  
 पारा 1013.8  
 फंकेना  
 ग्रस्त होना 1013.16  
 फंकेना  
 ग्रस्त होना 1013.16

फंकेना  
 पारा में फेंसना 1013.21  
 फंकेना  
 कूट पारा 1013.9  
 क्लेश 392.3  
 र्यंसका 245.13  
 निटिंग स्टिच 572.13  
 पारा 1013.8  
 फंकेना 572.8 ⇨  
 फॉसी फंकेना 871.13  
 फंकेना डालना  
 फॉसी चकाना 871.19  
 फंकेना  
 छलौंग 1086.10  
 फेंसन  
 ग्रस्त भूति 1013.3  
 फेंसना  
 अटकना 1024.9  
 अवरुद्ध होना 1047.18  
 उलझना 573.14  
 ग्रस्त होना 1013.16  
 पारा में फेंसना 1013.21  
 प्रेम होना 368.12  
 फेंसरी  
 कूट पारा 1013.9  
 खपथी 938.11  
 फेंसा [फेंसी]  
 अटका [अटकी] 1024.11  
 ग्रस्त 1013.24  
 पाराबद्ध 1013.27  
 फेंसाना  
 रिवट करना 1016.40  
 फेंसापन  
 ग्रस्तता 1013.2  
 फेंसाव  
 ग्रस्तता 1013.2  
 फंके  
 विवरण 291.18  
 फंकेना  
 एकाकी 697.14  
 मात्र 946.19  
 फंकेना दम  
 एकांततः 897.21  
 नितांत एकाकी 697.15  
 फंकेनीर  
 इस्लामी साधु 790.23  
 साधु 790.16  
 फंकेनीर [फंकेनीरी]  
 भिक्षुक 642.5  
 फंकेनीर फुकरा  
 भिक्षुक 642.5  
 फंकेनीरी  
 शिक्षा वृत्ति 642.4  
 फंकेनीर  
 धर्म ग्रंथज्ञ 738.2  
 फंकेना  
 अलमस्त 382.23  
 स्वेच्छाचारी 809.7

फंकेनी  
 दुर्दशा 827.8  
 फंकेना  
 अभिमान 858.1  
 फंकेनीया  
 अभिमानपूर्वक 858.14  
 फंकेना  
 फाग 457.35  
 फंकेना  
 फाल्गुन 43.18  
 फंकेनीया  
 वसंत कालीन 52.3  
 फंकेना  
 दया 834.1  
 विद्या 318.1  
 फंकेनीहत  
 अपमान 855.1  
 कुख्याति 848.1  
 दुर्दशा 627.8  
 फंकेना  
 अनावश्यक 525.9  
 फंकेना  
 अनिच्छनीय 360.11  
 अनुपयोगी 525.8  
 प्रयोजनहीन 509.3  
 प्रयोजनहीनतः 509.5  
 फंकेना  
 फटकाई 1009.12  
 फंकेना  
 छँटन 526.10  
 छाज 560.22  
 फटकाई 1009.12  
 फंकेना  
 गुल्लक. क्रीता 926.3  
 छाज 560.22  
 रदी करना 526.16  
 सहसा आना 1093.8  
 फंकेना  
 खटखटा 550.6  
 छाज 560.22  
 झाड़न 218.15  
 धुनकी 562.2  
 फंकेना  
 फटकाई 1009.12 ⇨  
 फंकेना  
 डॉट 373.11  
 भर्त्सना 843.6  
 फंकेना  
 अर्जित करना 848.4  
 कपड़े कूटना 220.34  
 छीनना 835.13  
 जोर से धरना 1019.11  
 झटकारना 868.22  
 डॉटना 373.25  
 भर्त्सना करना 843.17  
 फंकेना  
 झटकाव 169.3

फंकेना  
 खोंच 270.4  
 तड़कन 544.5  
 विस्फोट 544.8  
 फंकेना  
 एकता भंग होना 899.11  
 क्रुद्ध होना 373.15  
 जर्जर होना 536.6  
 फंकेना 544.15 ⇨  
 विलग होना 1011.3  
 फंकेना  
 धमाका 296.21  
 फटफटाहट 297.35  
 फंकेना  
 बकवास करना 428.14  
 फंकेना  
 फटफटाहट 297.35 ⇨  
 फंकेना  
 फटफटिया 1071.53 ⇨  
 फंकेना [फंकी]  
 जर्जर 536.11  
 फंकेना [फंकी] 544.21 ⇨  
 विदीर्ण 544.18  
 विस्फारित 119.12  
 फंकेना  
 फंकेना 544.6 ⇨  
 विदीर्णन 544.3  
 फंकेना  
 धमाका 296.21  
 फंकेना  
 धमाका 296.21  
 फंकेना  
 धमाका 296.21  
 फंकेना  
 फटाका 938.30  
 फंकेना  
 फटाका 193.8  
 फंकेना  
 फटाका 193.8 ⇨  
 फंकेना  
 फटाका: सचन भाग  
 छेना 193.13  
 फंकेना  
 जर्जरता 536.3  
 फंकेना पुरानी [फंकी पुरानी]  
 जीर्ण शीर्ण 536.12  
 फंकेना पुरानी कपका  
 जीर्ण परिधान 583.4  
 फंकेना  
 शीघ्रतः 498.13  
 फंकेना  
 विदरण 544.2  
 फंकेना  
 स्फटिक 283.20  
 फंकेना  
 कंगाल 627.21  
 फंकेना  
 अभावग्रस्त 627.17  
 कंगाल 627.21

कटेहारी  
कंगाली 827.7  
कट्  
व्याहृति सूची 741.24  
कट्टा  
कट्टा 990.8 ⇐  
स्तीपर 597.12  
कट्टा  
काष्ठ पटल 990.6  
केटयाक 1065 4  
पच्यक 938.27  
पटल 990.3  
कट्टा 990.8  
कट्टी  
पच्यक 938.27  
कट्टा  
पाक 599 30  
कक  
तोप गाड़ी 1070.18  
दौव 481 17  
दुकानदार आसन 595.6  
घृतगृह 481 13  
हल लट्ठा 563.13  
ककक  
कककहाट 297.36  
स्फुरण 1039.6  
कककता [कककती]  
स्पदित 1039.18  
स्फुरणशील 1039.19  
कककन  
नन्न स्पंदन 1039.3  
सधलन 1037 4  
स्फुरण 1039.6  
कककना  
आरघ्य होना 379.5  
घाँकना 379.6  
सधलित होना 1037.13  
स्पदित होना 1039.14  
स्फुरण होना 1039.15  
ककनवीस  
रज [रिं]: पलन (मरु) कू 882.11  
ककना  
फटना 544.15  
कककक  
पंख स्फुरण 1039 9  
कककहाट 297.36  
स्फुरण 1039.6  
ककककता [ककककती]  
स्फुरणशील 1039.19  
ककककना  
कुलबुलाना 392.17  
टिमटिमाना 287.32  
तरुपना 392.20  
स्फुरण होना 1039.15  
ककककाव  
झटकाव 189.3  
ककककाहट  
पंख स्फुरण 1039.9

ककककाहट 297.36 ⇐  
स्फुरण 1039.6  
ककककी  
स्फुरण 1039.6  
कककाज  
अक्ष घृतकर 481 9  
कककाजी  
अक्ष घृत 481 3  
कककखना  
दौव पर लगाना 481.24  
घृत खेलना 481.21  
ककक लगाना  
दौव पर लगाना 481.24  
घृत खेलना 481.21  
ककका [ककी]  
विदीर्ण 544.18  
विस्फारित 119.12  
कककाई  
फटाई 544 6  
विदीर्णन 544 3  
कककिया  
खुदरा व्यापारी 657 5  
घृत गृह स्वामी 481 14  
कककी  
घट्टा 686 14  
कककण  
सर्प कण 140 3  
कककणधर  
कोबरा 123.19  
सर्प 123.10  
कककणधर सर्प  
कककणधर सर्प 123.13 ⇐  
कककण मणि  
सर्प मणि 96.20  
कककणज्जक  
मरुआ 281 26  
कककणिनी  
मादा सर्प 123 11  
कककणीत्र  
वासुकि नाग 778.21  
शेषनाग 778.22  
कककणी  
कोबरा 123 19  
कककणधर सर्प 123 13  
मरुआ 281 26  
रौंगा 94.13  
सर्प 123.10  
कककणी कन्या  
नाग स्त्री 778.13  
कककणी केसर  
धपा 14.15  
कककणीभोजी  
गरुड 777.15  
कककणीश्वर  
वासुकि नाग 778.21  
शेषनाग 778.22  
कककतवा  
आज्ञा 347.1

डिकी 877 17  
धर्म आदेश 742.7  
निर्णय 328.4  
मुफ्ती: आदेश 744.22  
ककतवा दाता  
मुफ्ती 744.21  
ककतह  
जय 912.1  
परराष्ट्र जय 912.4  
ककतहनामा  
विजय गाथा 841.8  
ककतहमंद  
सफल 512.6  
ककतहयाव  
जयी 912 15  
ककतहयावी  
जय प्राप्ति 912 2  
सफलता 512 1  
ककतिगा  
टिड्डा 122 25  
शलभ 122 42  
ककतीला  
घृत निवारक बत्ती 759 10  
ककतूही  
कतूही 585 58 ⇐  
ककतूही  
यास्कट 585 59  
ककताह  
जयी 912 15  
कककन  
कककन 91.6 ⇐  
ककका  
ककका 91.7 ⇐  
फेन 88 15  
कककाव  
कककन 91.6  
कककी  
ककका 91 7  
कककक  
खदबदाव 91 5  
ककका 91.7  
ककककाहट  
ककका 91 7  
ककन  
कला 397 1  
ककन  
सर्प कण 140.3  
ककनकारी  
कला कर्म 397 15  
ककनगना  
अंकुर निकलना 117 10  
ककना  
अद्वैत भाव 752.8  
नष्ट 531.7  
ककनियाला  
सर्प 123 10  
ककनी  
अगला डैक 1073.28

कककना  
वर्धित होना 979 12  
कककस  
पिलपिला [पिलपिली] 154 32  
ककककना  
रोना 386.16  
विलाप करना 386 23  
कककद  
उदबुजन 117 3  
वृद्धि 979 4  
कककदना  
उबजना 117.11  
कककूद  
ककूद 549 9 ⇐  
कककूदना  
उबजना 117 11  
कककूदी  
ककूद 549 9  
कककोला  
छाला 167 9  
बर्न 167 8  
कककी  
उक्ति 434 1  
कटाक्ष 844 3  
कककी कसना  
कटाक्ष करना 844 7  
कककीबाज  
कटाक्ष कर्ता 844 14  
कककन  
शोभा 226.1  
कककना  
शोभान्वित होना 226 7  
सुखद लगना 390 9  
कककाना  
शोभान्वित करना 226 8  
कककीला [ककीली]  
शोभायुक्त 226 11  
ककक  
धर्म परिधान 583.8  
ककक 582 17 ⇐  
ककक (अँ)  
ककक 582 17  
कककन  
कककन 882.15 ⇐  
कककज्जद  
पुत्र 718 3  
कककनिर्णिग (अँ)  
गदा ककका 579.18  
कककनीघर  
कककनीघर 595.1 ⇐  
कककनीघर (अँ)  
कककनीघर 595 1  
कककनेस (अँ)  
दाहित्र 109.2  
ककककद  
दौवपंथ 819.11  
ककककदी  
धकमेबाज 819 18

**फरफार**

छली 827 24  
**फरफर**  
 फडफडाहट 297 36  
**फरफराना**  
 फहरना 1039 16  
**फरफराहट**  
 फडफडाहट 297 36  
**फरमी**  
 अनुपेक्षक 184 9  
**फरमी बरदारी**  
 आज्ञा पालकता 347 7  
**फरमाइश**  
 अनुरोध 350 6  
**फरमाइशी**  
 अनुरोधित 350 19  
 आयाचित 1055 16  
**फरमान**  
 अध्यादेश 878 5  
 आज्ञा 347 1  
 आज्ञापत्र 347 5  
 डिक्की 877 17  
 राज्यादेश 878 3  
**फरमाना**  
 आज्ञा देना 347 8  
 कहना 430 11  
**फरमानी**  
 अनुपेक्षा 184 2  
**फरमा बरदार**  
 आज्ञा पालक 347 12  
**फरलांग**  
 फरलांग 959 23 ⇌  
**फरलांग: 8**  
 मील 959 25  
**फरवरी**  
 ईसवी मास सूची 43 4  
 केडलमस 57 58  
**फरश**  
 फर्श 610 1  
**फरसा**  
 कुल्हाड़ा 559 9  
 कुल्हाड़ी 559 10  
 परशु 924 14  
**फरसान**  
 घटपटा उपाहार 200 5  
**फर सील**  
 फर सील 124 10 ⇌  
**फर सील (अँ)**  
 फर सील 124 10  
**फरहरा**  
 ध्वजा 408 4  
 व्यक्तिशः 689 4  
**फरहराना**  
 फहरना 1039 16  
**फरहरी**  
 स्फुरण 1039 6  
**फरहाद की नहर**  
 कठिन कार्य उपमान सूची 487.34

**फरारुप**  
 चौड़ाई युक्त 965 11  
**फरारुपदिल**  
 विशालहृदय 817 11  
**फरारुषी**  
 अत्यधिकता 944 2  
**फरारागत**  
 निवृत्ति 503 1  
**फरारागत**  
 रिहाई 869 1  
 स्वत्व अतरण पत्र 622.17  
**फरारागती**  
 स्वत्व परित्याग 622 18  
**फरारामोश**  
 विस्मरणशील 357 13  
 विस्मृत 357 12  
**फरारामोशी**  
 विस्मृति 357 4  
**फरार**  
 पलायित 916.19  
 फरार 916.25 ⇌  
**फरार कर्म**  
 फरार कर्म 916.7 ⇌  
**फरार होना**  
 पलायन करना 916.10  
 फरार होना 916.16 ⇌  
**फरारी**  
 पलायित 916 19  
**फरिया**  
 ओढ़नी 585 9  
**फरियाद**  
 अभियोग 875 3  
 फरियाद 350 9 ⇌  
 याधिका 875 15  
 वाद पत्र 875 2  
**फरियाद करना**  
 फरियाद करना 350 14 ⇌  
**फरियादी**  
 अभियोक्ता 875 5  
 प्राथी 350 18  
 फरियादी 350 22 ⇌  
**फरिशता**  
 देवदूत 782 1  
**फरी**  
 ढाल 921 1  
**फरीक**  
 पक्ष 885.3  
**फरीक्री**  
 पक्ष विषयक 885 26  
**फरुयक**  
 पानदान 213 28  
**फरुहा**  
 फावड़ा 559.24  
**फरुही**  
 सुरसुरा 200 9  
**फरुब**  
 चकमा 819.9  
 छल 827 7

**-फरुब**  
 प्रलोभक 359 32  
 सम्मोहनपूर्ण 367 7  
**फरुबी**  
 चकमेबाज़ 819.18  
 छली 827 24  
**फरुरा**  
 ध्वजा 408 4  
**फरुरुप**  
 विक्रय 661 1  
**फरुरुपना**  
 विक्रीत 661.21  
**फरुराश**  
 विक्रेता 661 2  
**फरुराशी**  
 विक्रय 661 1  
**फरुराह (अँ)**  
 फरऊन 882 15  
**फरुर**  
 अतराल 33 9  
 असदृश 310 6  
 असमकक्षता 851 2  
 असादृश्य 310 1  
 घटान फल 954 9  
 सीमंत 223 18  
**फरुर मालुम करना**  
 घटान करना 954 12  
**फरुर**  
 दायित्व 895 1  
 धर्म कर्म 747 1  
**फरुरी**  
 काल्पनिक 308 18  
**फरुर**  
 एकाकी 697 14  
 व्यक्ति 689 1  
 सूची 993 1  
**फरुर जुर्म**  
 आरोप पत्र 875 8  
**फरुरन बर्दन**  
 व्यक्तिशः 689.4  
**फरुरीघर (अँ)**  
 फरुरीघर 595 1  
**फरुर (अँ)**  
 कपनी 692.4  
**फरुरा**  
 फ्रीमट 520 11  
**फरुरा**  
 पटल 990 3  
**फरुराटा**  
 फरुराटा 1084 13 ⇌  
**फरुराटे सेना**  
 तेज़ दौड़ना 484 14  
**फरुराटे से**  
 शीघ्रत 496 13  
**फरुराश**  
 तबू व्यवसायी 600 6  
**फरुराशगीरी**  
 तबू कर्म 600 5

**फरुराशी**  
 तबू कर्म 600.5  
**फरुरा**  
 फर्श 610 1 ⇌  
 फर्शी चादर 593.29  
 फर्शी बिछावन 593 36  
 बिछावन 593.35  
**फरुरा**  
 निम्न 983 5  
 फर्शी चादर 593.29  
 फर्शी बिछावन 593 36  
**फरुरा चादर**  
 फर्शी चादर 593 29 ⇌  
**फरुरा बिछावन**  
 फर्शी बिछावन 593.36 ⇌  
**फरुरा एड (अँ)**  
 तत्काल धिकित्सा 173.6  
**फरुरा मेट (अँ)**  
 उप पोताध्यक्ष 1080.17  
**फल**  
 उपपत्ति 328 1  
 कथा फल 466.12  
 गणित फल 953 3  
 चपूः फला 1073.9  
 परिणाम 510 1  
 पारिश्रमिक 643 8  
 पासा बिदी 479.25  
 प्रतिफल 510 3  
 फल 116 1 ⇌  
 फला 270 9  
 बाण फल 926 21  
 हल. फाल 563.12  
**फल (दे.)**  
 खाद्य फल 190 1  
**फल (दे. खाद्य फल भी)**  
 फल 116 1  
**फल आना**  
 फल आना 118.9 ⇌  
**फल इच्छा**  
 सकाम कर्म 504.7  
**फल उपवन**  
 फल उपवन 12.13 ⇌  
**फल कंटक**  
 कटहल 189 9  
**फलक**  
 आकाश 2 1  
**फलक**  
 आयाम 964 1  
 काच पटल 990 6  
 कैटवाक 1065 4  
 चित्र फलक 404 31  
 ढाल 921.1  
 धातु पटल 990.17  
 नितब 148 13  
 पटल 990.3  
 प्रशसा पत्र 841.9  
 बाणः फल 926.21  
 मस्तक 140.12



मेज़ 595.33  
सम्मान फलक 857.14  
फलक आधार  
फलक आधार 404.32 ⇐  
फल कथन  
प्रारब्ध कथन 261.3  
फलकदार  
आयामयुक्त 964.20  
फलका  
छाला 167.9  
पोतः मालकक्ष 1072.37  
फलकाम  
सकाम कर्मी 504 20  
फल गुच्छ  
फल गुच्छ 686 18 ⇐  
फलः गुद्या  
फल गुद्या 191.13 ⇐  
फलप्राही  
प्रतिफल भोगी 510 13  
फलः छिलका  
फलः छिलका 118.10 ⇐  
फलतः  
इस लिए 507 10  
परिणामतः 510 15  
फलद  
फलप्रद 118 18  
फल वृक्ष 111 28  
फलदशा  
फलप्रदता 118 3  
फल दान  
वर रोक 800.45  
फलदायी  
फलप्रद 118 18  
फलदार  
फलयुक्त 116.11  
फलन  
फलन 118.2 ⇐  
फल न मिलना  
प्रतिफल न मिलना 510.9  
फलना  
पुणित होना 169 12  
प्रसव होना 244 10  
फल आना 118.9  
सफल होना 512 3  
फल.प्रद  
फलप्रद 118.18 ⇐  
लाभप्रद 646.16  
फलप्रदता  
फलप्रदता 118.3 ⇐  
फल प्राप्ति  
नाटक फलागम 466.16  
प्रतिफल भोग 510.4  
सफलता 512 1  
फल फूल  
पत्रं पुष्पं 750.10  
फल बाता  
फल उपवन 12.13

फल भोग  
कर्मफल भोग 260.10  
प्रतिफल भोग 510.4  
फल भोगना  
प्रतिफल भोगना 510 8  
फल भोगी  
प्रतिफल भोगी 510 13  
फल मिलना  
प्रतिफल भोगना 510 8  
फलयुक्त  
फलयुक्त 116.11 ⇐  
फल रस  
फल रस 208.5 ⇐  
फलराज  
खरबूजा 190 15  
फलयान  
फल वृक्ष 111 28  
फलवान [फलवली]  
फलयुक्त 116 11  
फल वृक्ष  
फल वृक्ष 111.28 ⇐  
फलश्रेष्ठ  
आम 190 8  
फलस  
कटहल 189.9  
फलसफ़ा  
दर्शन शास्त्र 760 1  
दार्शनिक प्रणाली 760.4  
फलसफ़ी  
दार्शनिक प्रणाली 760 4  
फल सिद्धि  
प्रतिफल भोग 510 4  
सफलता 512 1  
फल स्वरूप  
परिणामतः 510 15  
फलहारी  
कालिका 776 2  
फलहीन  
अफलित 118.17  
प्रतिफलहीन 510 14  
फलहीन 116.12 ⇐  
लाभहीन 649.12  
फलहीनता  
लाभहीनता 649 4  
फल  
अमुक 316.22  
फलाङ्कुर  
फलाङ्कुर 113.4 ⇐  
फलांग  
छलांग 1086 10  
लंघन 1097.7  
फलौग  
विमान उकान 1081.11  
फलांगना  
लौघना 1097.12  
फला  
घण्टूः फला 1073.9  
फला 270.9 ⇐

बाण फल 926 21  
फला [फली]  
प्रतिफलित 510.12  
फलित 118 16  
फलाकक्षा  
सकाम कर्म 504 7  
फलाकक्षी  
सकाम कर्मी 504 20  
फलागम  
नाटक फलागम 466 16  
प्रतिफल भोग 510 4  
फलन 118 2  
फलाढ्य  
फलप्रद 118 18  
फलयुक्त 116.11  
फलित 118 16  
फलादेश  
प्रारब्ध कथन 261.3  
फलाधिकारी  
नायक 467 5  
फलाध्यक्ष  
ईश्वर 764 1  
फलाना  
अमुक 316 22  
फलानुसार  
परिणामतः 510.15  
फलाफल  
कर्मफल 504 10  
सुख दुःख 390 1  
फलालीन  
फलालेन 580 32  
फलालेन  
फलालेन 580.32 ⇐  
फलाशन  
तोता 126 44  
फलाशा  
सकाम कर्म 504.7  
फलासंग  
सकाम कर्म 504.7  
फलासक्त  
सकाम कर्मी 504 20  
फलासक्तिहीन कर्म  
निष्काम कर्म 504.6  
फलास्थि  
नारियल 13.11  
फलाहार उपवास  
फलाहार उपवास 748.4 ⇐  
फलाहार व्रत  
फलाहार उपवास 748.4  
फलाहारी  
फलाहारी 204.12 ⇐  
फलित  
फलयुक्त 116.11  
फल वृक्ष 111.28  
फलित 118.16 ⇐  
सफल 512.6  
फलित ज्योतिष  
फलित ज्योतिष 261.1 ⇐

फलित ज्योतिष ग्रह  
फलित ज्योतिष ग्रह 261.12 ⇐  
फलित ज्योतिषीय  
फलित ज्योतिषीय 261.42 ⇐  
फलितार्थ  
सारांश 449.12  
फली  
फली 116.3 ⇐  
बीज समूह 112 9  
फलता  
बत्ती 568.8  
भूत निवारक बत्ती 759 10  
फलीभूत  
फलित 118.16  
फलीभूत होना  
सफल होना 512.3  
फलोदय  
नाटक फलागम 466.16  
प्रतिफल भोग 510.4  
फलन 118 2  
फलीघान  
फल उपवन 12 13  
फलोपवन  
फल उपवन 12.13  
फल्यु  
पौराणिक नदी सूची 20.23  
सारहीन 84 20  
सुदर 157 7  
फल्युन  
इंद्र 773 5  
फल्युनीभय  
बृहस्पति ग्रह 7 6  
फलयारा  
फुहारा 1032 10  
फसकका  
बैठना मुद्रा सूची 1028 5  
फसल  
ऋतु 51 13  
खड़ी फसल 547 4  
फसल 547.1 ⇐  
फसल मौसम 547.5  
फसल उगाना  
कृषि करना 548.33  
फसल कटाई  
फसल कटाई 548 18 ⇐  
फसल काटना  
फसल काटना 548.39 ⇐  
फसल काटने वाला  
फसल काटने वाला 548.19 ⇐  
फसल तैयार होना  
वनस्पति पकना 118.13  
फसल नारा  
फसल नारा 549.2 ⇐  
फसल नाराक  
फसल नाराक 549.11 ⇐  
फसल नारा होना  
फसल नारा होना 549.3 ⇐

## फ़सल मरना

फ़सल मरना  
 फ़सल नाश होना 549.3  
 फ़सलमारी  
 कृषि महामारी 549.7  
 फ़सल मारी जाना  
 फ़सल नाश होना 549.3  
 फ़सल: मौसम  
 फ़सल मौसम 547.5  
 फ़सल मौसम  
 फ़सल मौसम 547.5 ⇨  
 फ़सल मौसम सूची  
 फ़सल मौसम सूची 547.6 ⇨  
 फ़सल विषयक  
 फ़सली 547.11  
 फ़सली  
 एक फ़सली वनस्पति 111.4  
 फ़सली 547.11 ⇨  
 फ़सल  
 उपद्रव 903.1  
 युद्ध 905.4  
 फ़सली  
 उपद्रवकारी 903.17  
 फ़सलाना  
 कथा कृति 450.3  
 विवरण 449.8  
 फ़सली  
 दीवार 807.1  
 दुर्ग परकोटा 804.14  
 परकोटा 804.11  
 फ़सल  
 चीरा 174.4  
 टीका 176.28  
 रुधिर मोचन 174.6  
 फ़सल  
 चीरा लगाने वाला 174.5  
 फ़हरना  
 फ़हरना 1039.16 ⇨  
 फ़हरान  
 फ़हराव 1039.10  
 फ़हराना  
 कपड़े सुखाना 220.38  
 ध्वजारोहण करना 408.18  
 हवा से सुखाना 89.8  
 फ़हराव  
 फ़हराव 1039.10 ⇨  
 फ़हरिस्त  
 सूची 993.1  
 फ़ौक  
 कटोरी: कली 585.89  
 फ़ौक 938.29 ⇨  
 फ़ौक कटाई  
 फ़ौक कटाई 543.6 ⇨  
 फ़ौका  
 फ़ौकाई 181.23  
 फ़ौकी  
 फ़ौकी 181.30  
 फ़ौट  
 प्राप्य अंश 623.8

1290

विदर 544.4  
 फ़ौटना  
 विभाजन करना 699.12  
 फ़ौटबंदी  
 विभाजन दस्तावेज़ 823.7  
 फ़ौटा  
 तिकोना आला 671.19  
 फ़ातासी  
 मनोकल्पना 308.5  
 फ़ौद  
 छलांग 1086.10  
 लंघन 1097.7  
 फ़ौदता [फ़ौदती]  
 छलांगता [छलांगती] 1086.23  
 फ़ौदना  
 छलांगना 1086.18  
 लौघना 1097.12  
 फ़ौदी  
 रस्ती सूची 570.6  
 फ़ौस  
 अवरोध 1047.8  
 उलझन 573.6  
 कटक 115.4  
 खपच 938.10  
 खपची 938.11  
 गौस 938.12  
 फंदा 572.8  
 फंक फंदा 1013.10  
 फौसना  
 वशीकरण करना 758.38  
 फौसी  
 फौसी फंदा 871.13  
 फौसी: मृत्यु दंड 871.5  
 फौसी: कर्मी  
 जल्लाद 871.17  
 फौसीघर  
 फौसीघर 871.14 ⇨  
 फौसी बकाना  
 फौसी बकाना 871.19 ⇨  
 फौसी तख्ता  
 फौसी तख्ता 871.12 ⇨  
 फौसी देना  
 फौसी बकाना 871.19  
 फौसी फंदा  
 फौसी फंदा 871.13 ⇨  
 फौसी: मृत्यु दंड  
 फौसी: मृत्यु दंड 871.5 ⇨  
 फौसी: सज़ा  
 फौसी: मृत्यु दंड 871.5  
 फ़ाइटर (अँ)  
 युद्धक विमान 1074.17  
 फ़ाइल (अँ)  
 अर्थ दंड 870.7  
 फ़ाइनगल ईयर (अँ)  
 वित्तीय वर्ष 42.14  
 फ़ाइनस (अँ)  
 वित्त 633.1

फ़ाइवर बोर्ड (अँ)  
 गत्ता 415.12  
 फ़ाइल  
 फ़ाइल 417.1 ⇨  
 फ़ाइल (अँ)  
 जिल्द सूची 418.5  
 फ़ाइल 417.1  
 रेती 559.33  
 फ़ाइव-डे क्रिकेट  
 फ़ाइव-डे क्रिकेट 477.4 ⇨  
 फ़ाइव-डे क्रिकेट (अँ)  
 फ़ाइव-डे क्रिकेट 477.4  
 फ़ाउंटन (अँ)  
 फुहारा 1032.10  
 फ़ाउंडर (अँ)  
 संस्थापक 693.10  
 फ़ाउन्टेन पैन  
 फ़ाउन्टेन पैन 418.18 ⇨  
 फ़ाउन्टेन पैन (अँ)  
 फ़ाउन्टेन पैन 418.18  
 फ़ाफ़ा  
 व्रत उपवास 748.1  
 फ़ाफ़ाकश  
 उपवासक 748.19  
 क्षुधित 180.15  
 फ़ाफ़ामस्त  
 अलमस्त 382.23  
 फ़ाफ़ामस्ती  
 अलमस्ती 382.7  
 फ़ाफ़ा शिकनी  
 उपवास भंग 748.12  
 फ़ाफ़ेदार  
 उपवासक 748.19  
 फ़ाफ़ला  
 फ़ाफ़ला 126.52 ⇨  
 फ़ाफ़ला उड़ जाना  
 नयनीत होना 395.13  
 फ़ाफ़ला: बोली  
 टुटकू टूँ 298.15  
 फ़ाग  
 फ़ाग 457.35 ⇨  
 वसंत काल 52.1  
 वसंत पंचमी 57.23  
 होली गीत 57.33  
 फ़ागुन  
 फ़ाल्गुन 43.18  
 वसंत काल 52.1  
 फ़ागुनी  
 वसंत कालीन 52.3  
 फ़ाफ़िल  
 अतिरिक्त 945.4  
 फ़ाफ़िल  
 अधिक 944.5  
 फ़ाफ़िल  
 अवशिष्टांश 939.17  
 फ़ाफ़िल  
 पूर्णविध 318.5

फ़ाफ़िल  
 मीलवी 744.24  
 विद्वान 319.8  
 फ़ाटक  
 फ़ाटक 608.9 ⇨  
 बहुत बड़ा छिद्र 271.11  
 फ़ाटका  
 सट्टेबाज़ी 481.5  
 फ़ाटकी  
 फ़िटकरी 281.25  
 फ़ाक  
 फ़टाई 544.6  
 फ़ौक 938.29  
 विदर 544.4  
 विदरेण 544.2  
 विस्फार 119.3  
 फ़ाइन  
 पनीर जल 193.15  
 फ़टाई 544.6  
 फ़ाइन 938.30 ⇨  
 फ़ाकना  
 फ़ाइन 544.16 ⇨  
 विदीर्ण करना 544.13  
 विस्फारित करना 119.7  
 फ़ाक़े  
 विस्फारिततः 119.15  
 फ़ाणित  
 राब 280.8  
 शीरा 280.10  
 फ़ातिमा  
 मुहम्मद: पुत्री 791.22  
 फ़ातिमा: पुत्र  
 हसन 791.27  
 हुसैन 791.28  
 फ़ातिमा: माता  
 ख़दीजा 791.14  
 फ़ातिहा  
 नमाज़े जनाज़ा 253.13  
 फ़ातिहा ख़ानी  
 उर्स 57.49  
 नमाज़े जनाज़ा 253.13  
 फ़ावर (अँ)  
 गौड 764.14  
 पादरी 744.29  
 पोप 744.33  
 फ़ावर (अँ) (दे. गौड)  
 ईसाई त्रिमूर्ति सूची 765.3  
 फ़ाना  
 अगला डेक 1073.28  
 फ़ानी  
 इहलौकिक 258.13  
 नश्वर 38.7  
 फ़ानूस  
 फ़ानूस 285.21 ⇨  
 फ़ाफ़र  
 कूटू 187.7  
 फ़ायदा  
 लाभ 646.2

हित 712.1  
 क्रायदेवंश  
 उपयोगी 524.18  
 लामप्रद 648.18  
 हितकारी 712.13  
 क्रायर झंजन (अं)  
 दमकल 108.8  
 क्रायर करना  
 विस्फोट प्रणोदित करना 1051.21  
 क्रायरप्रुक्ति (अं)  
 अग्नि रोचन 920.6  
 क्रायर शिगेड (अं)  
 दमकल 108.8  
 क्राया  
 फाहा 174.19  
 कारझती  
 ऋणमुक्ति पत्र 633.17  
 कारम  
 फार्म 551.2  
 कारम  
 फोर्म 412.25  
 कारसी  
 विलष्ट भाषा 421.22  
 कारिश  
 निवृत्त 503.9  
 कारिग झती  
 ऋणमुक्ति पत्र 633.17  
 कारी  
 ओइनी 585.9  
 फार्म  
 फार्म 551.2 ⇌  
 फार्म (अं)  
 फार्म 551.2  
 फार्म हाउस (अं)  
 खेत भवन 602.15  
 फार्मसी (अं)  
 औषध दुकान 175.9  
 औषधालय 175.2  
 फाल  
 एक पद 1083.2  
 पूला 686.19  
 फाल  
 फाल 571.44 ⇌  
 फालनामा 262.11  
 फाल  
 फावडा 559.24  
 मस्तक 140.12  
 फाल  
 शकुन 262.1  
 फाल  
 सीमंत भाग 223.19  
 हल: फाल 563.12  
 फाल (अं)  
 फाल 571.44  
 फालकूट  
 हलित 548.48  
 फालगुप्त  
 बलराम 771.74

फालतु  
 अनावश्यक 525.9  
 फालतु  
 अनुपयोगी 525.8  
 फालतुपन  
 अतिरिक्तता 945.1  
 अनावश्यकता 525.3  
 फालतु सामग्री काटना  
 संक्षिपा करना 980.14  
 फालनामा  
 फालनामा 262.11 ⇌  
 फालसा  
 खाद्य फल सूची 190.2  
 फालाहत  
 जुता खेत 551.12  
 हलित 548.48  
 फालिज  
 पक्षाघात 264.11  
 फाल्गुन  
 अतिम साया 799.36  
 अर्जुन 771.36  
 फाल्गुन 43.18 ⇌  
 भारतीय मास सूची 43.6  
 फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी-चतुर्दशी  
 शिवरात्रि 57.27  
 फाल्गुन पूर्णिमा  
 कृष्ण दशोत्सव 57.31  
 होली 57.30  
 फाल्गुनानुज  
 नकुल 771.68  
 सहदेव 771.96  
 फाल्गुनिक  
 फाल्गुन 43.18  
 फाल्गुनी  
 वसंत काल 52.1  
 वसंत कालीन 52.3  
 फाल्गुनी सीलिंग (अं)  
 सजावटी छत 611.21  
 फाल्सी (अं)  
 वा. फाल्सी 587.6  
 फावडा  
 फावडा 559.24 ⇌  
 फावा  
 अगुप्त 822.28  
 बेपरदा 590.19  
 फाशीवाद  
 फाशीवाद 884.35 ⇌  
 फासनर (अं)  
 आबद्धन उपकरण 1013.7  
 फासला  
 अंतराल 33.9  
 दूरता 32.1  
 दूरी माप 959.19  
 धियोग 388.1  
 फासला करना  
 विलग करना 1011.4  
 फासला बनाए रखना  
 समांतर होना 1026.6

फासला बराबर होना  
 समांतर होना 1026.6  
 फासले पर  
 दूरी पर 32.10  
 फासकेट  
 रासायनिक उर्वरक सूची 552.13  
 फाहा  
 फाहा 174.19 ⇌  
 फाहिश  
 अश्लील 734.19  
 फिकना  
 प्रक्षिप्त होना 1052.13  
 फिका [फिकी]  
 अधोक्षिप्त 1052.24  
 प्रक्षेपित 1052.19  
 फिकाई  
 अधोक्षेपण 1052.12  
 प्रक्षेपण 1052.2  
 फिगर इशरान (अं)  
 उंगली: निशान 867.2  
 फिगर फिंट (अं)  
 उंगली छाप 867.3  
 फिगा  
 भुजंगा 126.61  
 फिटा [फिटी]  
 फिटा [फिटी] 195.60 ⇌  
 फिकर  
 आशंका 377.1  
 फिकररा  
 उक्ति 434.1  
 कटाक्ष 844.3  
 याक्य 424.1  
 फिकरराबंदी  
 काव्यहीन कविता 451.17  
 फिकराह  
 इस्लामी धर्मग्रंथ 739.1  
 इस्लामी विधि 878.7  
 फिकर  
 धिता 377.2  
 विचारण 330.5  
 फिकरमद  
 आशंकित 377.6  
 धिताग्रस्त 377.10  
 फिकस करना  
 फिट करना 1016.37  
 फिकसिंग (अं)  
 फिटिंग 1016.2  
 फिकसेशन (अं)  
 खडा 353.11  
 फिकसड (अं)  
 फिटिड 1016.44  
 फिकसड कौस्ट (अं)  
 नियत लागत 844.9  
 फिकसड डिपॉजिट अकाउंट (अं)  
 सावधि जमा खाता 631.7  
 फिचफिच  
 पिचपिचाहट 297.34

फिजा  
 परिस्थिति 69.5  
 फिट  
 आवश्यकतानुकूल 524.22  
 फिट (अं)  
 निरग्री 264.7  
 सही आकार का 981.16  
 फिट करना  
 फिट करना 1016.37 ⇌  
 फिट करने वाला  
 फिटर 1016.45  
 फिटकारी  
 फिटकारी 281.25 ⇌  
 फिटकार  
 भर्त्सना 843.6  
 फिटफिरी  
 फिटकारी 281.25  
 फिटकी  
 चीटा 668.6  
 फिटर  
 फिटर 1016.45 ⇌  
 फिटर (अं)  
 फिटर 1016.45  
 फिट होना  
 युक्ति लगना 517.8  
 सही आकार होना 981.15  
 फिटिंग  
 फिटिंग 1016.2 ⇌  
 फिटिंग (अं)  
 परिधान काट 577.4  
 फिटिंग 1016.2  
 फिटिड  
 फिटिड 1016.44 ⇌  
 फिटिड (अं)  
 फिटिड 1016.44  
 फितना  
 उपद्रव 903.1  
 तकरार 708.7  
 फितरत  
 स्वभाव 836.4  
 फितरतन  
 स्वभावतः 836.15  
 फितरती  
 कूटनीतिज्ञ 819.16  
 कूट युक्ति कर्ता 819.17  
 दुर्जन 818.5  
 फितुर  
 उन्माद 354.4  
 लगन 493.4  
 सनक 353.10  
 फिदबी  
 पत्रातः स्तुति आदि सूची 444.42  
 प्रेमासक्त 368.21  
 सम्मोहित 367.6  
 फिदा  
 आसक्त 365.5  
 प्रेमासक्त 368.21  
 सम्मोहित 367.6

## फ़िदाइयत

- फ़िदाइयत  
प्रेम भाव 752 15
- फ़िदा [फ़िदी]  
पिदा 126.50
- फ़िन (अँ)  
मीनपक्ष 483 18
- फ़ियास  
रूसी 215 7
- फ़िरंट  
विरोधी 886 7
- फ़िर  
उत्तर काल में 60 17  
उपरांत 39 16  
उस के उपरांत 39.20  
तो 507 13  
पुनः 73 5
- फ़िर आना  
फ़िर आना 1093.10 ⇨
- फ़िर एक दिन  
कालांतर में 60 16
- फ़िरकन  
थिरकन 1084 12
- फ़िरकना  
इतराना 860 15  
घूमना 1033.14  
थिरकना 1084 36  
नाघना 462 26
- फ़िरकनी  
फ़िरकनी 480.14 ⇨
- फ़िरक़ा  
जाति 730.1  
दल 691.1  
धर्म 735 1  
समाज वर्ग 688 7
- फ़िरक़ाई  
धर्मीय 735 11
- फ़िरक़ापारस्ती  
संप्रदायवाद 884 23
- फ़िरक़ाबंदी  
गुटबंदी 885.10  
संप्रदायवाद 884.23
- फ़िरकी  
आतिशबाज़ी सूची 56 6  
घकई 480 10  
घरखा घमरख 562 10  
नट 1016 25  
परछा 562 14  
फ़िरकनी 480 14  
लटई 575.9
- फ़िरकी डंड  
डंड सूची 485.10
- फ़िरत  
गति शैली 1084 1  
पुनरावृत्ति 73 1  
प्रतिप्रदान 638 3  
प्रतिप्रेषण 1054 4
- फ़िरते रहना  
घलिष्णु होना 1090 38
- फ़िरदोस  
बिहिशत 259.2
- फ़िरदोस  
स्वर्ग 259 1
- फ़िरन  
पैरहन 585 25
- फ़िर नहीं  
अपुनः 72 11
- फ़िरना  
आवारागर्दी करना 1090.39  
घूमना 1033 14  
घलिष्णु होना 1090.38  
पर्यटन करना 1090 40  
पीछे जाना 1095.12  
मुकरना 338 25  
बचन तोड़ना 338 30  
विचरना 1085 10
- फ़िरनी  
फ़िरनी 203 24 ⇨
- फ़िर फ़िर  
पुनः 73 5
- फ़िर भी  
और भी 945.11  
तदापि 507 15
- फ़िर से  
नवत 532 24  
शाबाशी: उद्गार सूची 841.40
- फ़िर से आना  
पुनर्जन्म होना 248.9
- फ़िर से बना  
पुनर्र्थित 527.18
- फ़िर से होना  
पुनरावर्तित होना 73 3
- फ़िर सौघना  
सिंहावलोकन करना 330 15
- फ़िर होना  
प्रत्यावर्तित होना 71 8
- फ़िराई  
प्रतिप्रदान 638 3  
प्रतिप्रेषण 1054.4
- फ़िराऊ  
जाकड़ पर खरीदा 680.19
- फ़िराक  
खोज इच्छा 336.5
- फ़िराक़  
चिंता 377 2
- फ़िरा लाना  
वापस लाना 1055 7
- फ़िरिशता  
देवदूत 782.1
- फ़िरोज़ाबाद  
दिल्ली 28.42
- फ़िरौती  
पुनरावृत्ति 640.5
- फ़िरलका (अँ)  
तट पोत 1072 28
- फ़िरलहाल  
अवधि में 39 11
- तब तक 39 15
- फ़िल्टर  
फ़िल्टर 405.18 ⇨
- फ़िल्टर (अँ)  
फ़िल्टर 405.18
- फ़िल्टरण  
फ़िल्टरण 1009.10 ⇨
- फ़िल्टरन  
फ़िल्टरण 1009 10
- फ़िल्म  
फ़िल्म 472.1 ⇨
- फ़िल्म (अँ)  
मिस्ली 990 26  
फ़ोटो फ़िल्म 405.21
- फ़िल्म (कड़)  
कथाचित्र 472 5
- फ़िल्म उद्योग  
फ़िल्म जगत 470.3
- फ़िल्म कला  
कला सूची 397.12
- फ़िल्मकार  
फ़िल्म निर्देशक 468.12
- फ़िल्म कैमरा  
फ़िल्म कैमरा 405.17 ⇨
- फ़िल्म कैमरा (अँ)  
फ़िल्म कैमरा 405 17
- फ़िल्म छिद्र  
स्प्रिकेट 405 23
- फ़िल्म जगत  
फ़िल्म जगत 470.3 ⇨
- फ़िल्म: ट्रेलर  
ट्रेलर 472.8
- फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर (अँ)  
फ़िल्म वितरक 470.5
- फ़िल्म निर्देशक  
फ़िल्म निर्देशक 468.12 ⇨
- फ़िल्म निर्माता  
फ़िल्म निर्माता 470.4 ⇨
- फ़िल्म: पटकथा  
पटकथा 466.5
- फ़िल्म प्रदर्शक  
फ़िल्म प्रदर्शक 470.6 ⇨
- फ़िल्म प्रोड्यूसर (अँ)  
फ़िल्म निर्माता 470.4
- फ़िल्म फ़्रेम  
फ़िल्म फ़्रेम 405.22 ⇨
- फ़िल्म फ़्रेम (अँ)  
फ़िल्म फ़्रेम 405.22
- फ़िल्म रील (अँ)  
रील 405.24
- फ़िल्म वितरक  
फ़िल्म वितरक 470.5 ⇨
- फ़िल्म व्यवसाय  
फ़िल्म जगत 470 3
- फ़िल्म शीट  
फ़िल्म शीट 472 17 ⇨
- फ़िल्म शीट (अँ)  
फ़िल्म शीट 472 17
- फ़िल्म संपादन  
फ़िल्म संपादन 472.21 ⇨
- फ़िल्म साउंड ट्रेक (अँ)  
साउंड ट्रेक 405.25
- फ़िल्म स्टूडियो  
फ़िल्म स्टूडियो 471.20 ⇨
- फ़िल्म स्टूडियो (अँ)  
फ़िल्म स्टूडियो 471.20
- फ़िल्मांकन  
फ़िल्मांकन 472.15 ⇨
- फ़िल्मांकनकार  
फ़िल्मांकनकार 472.16 ⇨
- फ़िल्मिंग (अँ)  
फ़िल्मांकन 472.15
- फ़िश (अँ)  
मत्स्य मांस 206 24
- फ़िश फ़ार्मिंग (अँ)  
मत्स्य पालन 555 7
- फ़िशिंग (अँ)  
मत्स्य आखेट 252.14
- फ़िशिंग नेट (अँ)  
मछली जाल 1013 13
- फ़िसडूडी  
अंतिम स्थानीय 707 14  
अधिलंघित 1095.19  
अप्रयत्नशील 490 9  
फ़िसडूडी 1095.23 ⇨
- फ़िसडूडीपन  
फ़िसडूडीपन 1095.6 ⇨
- फ़िसफ़िसा [फ़िसफ़िसी]  
ढहनशील 539.18
- फ़िसफ़िसाना  
ढहना 539.11
- फ़िसलन  
आलुपन 359.7  
फ़िसलन 1084.15 ⇨
- फ़िसलाहट 1084.14  
सरकन 1084 22
- फ़िसलन युक्त  
फ़िसलन युक्त 1084.47 ⇨
- फ़िसलना  
असावधान होना 498.4  
इच्छा होना 359.10  
घुपघाप पलायन करना 916.11  
डगमगाना 1084.35  
फ़िसलना 1084.37 ⇨
- रैंप 613.11  
लक्ष्य ध्युत होना 931.19  
लुब्ध होना 359.15  
सम्भोहित होना 367.4  
सरकना 1084 43
- फ़िसलना [फ़िसलनी]  
चिकना [चिकनी] 269.22
- फ़िसलन युक्त 1084 47
- फ़िसला [फ़िसली]  
लुब्ध 359.30
- फ़िसलाहट -  
फ़िसलाहट 1084.14 ⇨

केशिर किसिर  
कानाफूसी 435.4  
नीचना  
कपड़े कूटना 220.34  
ही  
अदर 999.17  
दर से 947.30  
ही (अँ)  
शुल्क 865.2  
हीका [फीकी]  
अतेजस्वी 839.10  
अरोचक 401.10  
अस्वादिष्ठ 275.21  
रसहीन 84.18  
विवर्ण 291.18  
हीका [फीकी]  
शोभाहीन 226.12  
हीका [फीकी]  
स्फूर्तिहीन 492.14  
स्वादहीन 275.16  
हीका पकना  
अवनति होना 535.4  
उत्साह भंग होना 492.8  
धुंधलाना 286.13  
विवर्ण होना 291.10  
हीकापन  
अतेजस्विता 839.6  
अरोचकता 401.1  
धुंधलापन 286.8  
विवर्णता 289.23  
स्वादहीनता 275.5  
हीघर (अँ)  
स्थायी स्तंभ 447.16  
हीघर फ़िल्म (अँ)  
कथाधित्र 472.5  
हीघर लेखक  
स्तम्भ लेखक 445.23  
ही ज़माना  
वर्तमान में 36.33  
हीज़ियोथेरेपी (अँ)  
व्यायाम चिकित्सा 172.19  
हीडर (अँ)  
दूध. बोटल 884.6  
हीता  
इलास्टिक 1050.13  
क्षेत्र मापन उपकरण 959.34  
जूता तसमा 571.32  
टैप 571.20  
तनी 571.29  
तसमा 571.30  
फीता 571.26 ⇌  
हीता काटना  
उद्घाटन करना 693.6  
हीनस  
पालकी 1071.24  
हीफरी  
पपड़ी 990.24

क्रीरोज़ा  
रत्न सूची 96.5  
क्रील  
हाथी 127.38  
क्रीलस्थाना  
गजशाला 603.21  
क्रीलवान  
महावत 1082.15  
क्रील्ड (अँ)  
खेल मैदान 482.10  
क्रील्डर (अँ)  
क्षेत्र रक्षक 475.11  
क्रील्लिंडिंग (अँ)  
क्षेत्र रक्षण 475.10  
क्रीस (अँ)  
प्रवेश शुल्क 665.4  
शुल्क 665.2  
क्री सदी  
प्रति शत 947.31  
क्री सैकड़ा  
प्रति शत 947.31  
कुकना  
कुद होना 373.15  
दग्ध होना 108.9  
कुकनी  
कुँकनी 85.23 ⇌  
सुनार कुँकनी 85.24  
कुकाई  
धातु सगलन 565.11  
कुकार  
कुकार 298.4 ⇌  
कुकार (दे.)  
फूक 245.12  
कुदना  
केश गुच्छ 137.5  
जपमाला कुँदना 749.9  
टोप टोपी. तुरा 584.21  
कुँदना 569.2 ⇌  
कुँदनेदार  
कुँदनेदार 569.30 ⇌  
कुँदारा [कुँदारी]  
कुँदनेदार 569.30  
कुँसी  
कुँसी 167.1 ⇌  
कुआ  
कूकी 722.27  
कुकना  
मूत्राशय 152.6  
कुग्गा  
गुब्बारा 480.8  
कुग्गी  
गुब्बारा 480.8  
कुघड़ा  
कुघड़ा 569.3 ⇌  
कुज़ला  
कुघड़ा 569.3  
फोक 526.2

कुजूल  
अनावश्यक 525.9  
अनुपयोगी 525.8  
लाभहीन 649.12  
कुजूलखर्च  
अपव्ययी 644.24  
कुजूलखर्ची  
अपव्यय 644.3  
कुट  
कुट 959.13 ⇌  
कुट: 1/12  
इंच 959.9  
कुट: 1.5  
हाथ 959.18  
कुट: 3  
गज 959.11  
कुट: 5,280  
मील 959.25  
कुट: 6 (लगभग)  
फ़ेदम 959.24  
कुट: 6,076.1  
समुद्री मील 959.26  
कुटक  
कफ 215.16  
छीटा 668.6  
पुट 1008.6  
कुटकर  
खुर्दा 666.14  
खुर्दा सामान 666.7  
रेजगारी 629.23  
विधिघ 310.8  
कुटकर खाद्य सामग्री  
परचून 186.8  
कुटकर विक्रेता  
खुदरा व्यापारी 657.5  
कुटकल  
खुर्दा 666.14  
खुर्दा सामान 666.7  
रेजगारी 629.23  
विधिघ 310.8  
कुटकल काव्य  
मुक्तक काव्य 451.13  
कुटका  
छाला 167.9  
कुटकाई  
छिटकाव 668.5  
कुटकार  
छिटकाव 668.5  
कुटकी  
छीटा 668.6  
कुटन  
उत्प्रातन 21.2  
कुटनोट (अँ)  
पाद टिप्पणी 427.9  
कुटपाथ (अँ)  
पगडंडी 1063.47  
सड़क पार्श्व 1064.1

कुटकुटाव  
फदकन 91.6  
कुटबाल  
कुटबाल 477.9 ⇌  
कुटबाल 479.10 ⇌  
कुटबाल (अँ)  
कुटबाल 477.9  
कुटबाल 479.10  
कुट कल (अँ)  
कुटा 959.5  
कुटवर्क (अँ)  
पद संचालन 462.24  
कुटवीअर (अँ)  
पद परिधान 588.4  
पादत्राण 588.9  
कुटा  
कुटा 959.5 ⇌  
रैखिक मापी 959.3  
कुटाव  
उद्भेदन 117.4  
कुटैल  
एकाकी 697.14  
पृथकघर 697.12  
कुटैल  
एकाकी 697.14  
पृथकघर 697.12  
कुकाई  
फोड 544.7  
कुकिया  
कुंसी 167.1  
कुदक  
अभिमान गति 1084.2  
कुदक 1086.2 ⇌  
कुदकना  
प्रसन्न होना 381.4  
कुदकी  
कुदकी 126.53 ⇌  
कुनगा  
कीट सूची 122.12  
हालम 122.42  
कुनगी  
उच्चता: उपमान सूची 982.13  
वृक्ष शिखर 114.14  
कुफकार  
कुकार 298.4  
कुफिया  
कुफिया 722.49 ⇌  
कुफेरा [कुफेरी]  
कुफिया 722.49  
कुफफुस  
कुफफुस 146.2 ⇌  
कुफकत  
प्रिय वियोग 388.3  
कुफलीला [कुफलीली]  
दूत 1044.6  
कुफना  
स्फुरण होना 1039.15

## फुरपुर

### फुरफुर

पंख स्फुरण 1039.9  
स्फुरण 1039.6

फुरफुराता [फुरफुराती]  
स्फुरणशील 1039.19

फुरफुराना  
स्फुरण होना 1039.15

फुरफुराहट  
पंख स्फुरण 1039.9

फड़फड़ाहट 297.36  
स्फुरण 1039.6

फुरफुरी  
अंग स्फुरण 1039.7  
स्फुरण 1039.6

फुरसत  
अव्यस्तता 503.4

विश्राम काल 494.2

फुरसत में  
विलंबत 495.16

फुरसत से  
विलंबत: 495.16

फुरसत से होना  
व्यस्त न होना 503.8

फुरहरी  
ठिठुरन 105.4

भय कपन 395.2  
स्पंद 1039.1

स्फुरण 1039.6

फुरहरी चढ़ना  
ठिठुरना 105.18

फुरहरी होना  
स्फुरण होना 1039.15

फुरेरी  
अंग स्फुरण 1039.7

रोमांच 382.6  
स्फुरण 1039.6

फुरती  
स्फूर्ति 491.2

फुरतीला [फुरतीली]  
स्फूर्त 491.13

फुरतीलापन  
स्फूर्ति 491.2

फुरती से  
शीघ्रत: 496.13

स्फूर्तिपूर्वक 491.18

फुर हो जाना  
अल्प काल तक रहना 38.5

फुरलका  
घपाती 202.16

फुरलकारी  
कड़ाई कर्म 577.12

कड़ाई काम 577.14

फुरलकिया  
घपाती 202.16

फुरलकी  
गोलगप्पा 200.12

घपाती 202.16

### फुलझंभी

आतिशबाजी सूची 56.6

फुलटाइम (अं)  
पूर्णकालिक 650.20

फुल प्लेट (अं)  
डिनर सैट सूची 680.21

फुलबगिया  
पुष्प उपवन 12.12

फुलरा  
पुष्प गुच्छ 12.34

फुलवारी  
उपवन 12.11

गुलकारी 577.15

पुष्प उपवन 12.12

फुल साइज (अं)  
पूरा साइज 961.3

फुलहरा  
पुष्प मंडप 600.11

फुलाई  
फुलाई 988.5 ⇐

फुलाव  
अफारा 163.29

फुलाव 988.4 ⇐

फुलावट  
भराई सामग्री 1004.4

फुलिंग  
धिगारी 106.11

स्पार्क 101.11

फुलिया  
बताशा कील 1016.11

फुलेल  
फुलेल 274.6 ⇐

फुलेहरा  
रेशमी बदनवार 1059.9

फुल्ल  
प्रस्फुटित 119.10

फुल्लता  
प्रस्फुटितता 119.2

फुल्लनयन  
विशालनयन 158.26

फुल्लनयना  
विशालनयना 158.27

फुल्ली  
फुल्ली 1016.27 ⇐

बताशा कील 1016.11

फुल्लीदार कील  
बताशा कील 1016.11

फुल्ली बनाना  
रिपट करना 1016.40

फुल्लीहीन कील  
पतली कील 1016.9

फुसकी  
अपान वायु 245.15

फुसफुस  
कानाफूसी 435.4

फुसफुसाहट 299.14

फुसफुसा [फुसफुसी]  
ढहनशील 539.18

फुसफुसाना  
कानाफूसी करना 435.19

फुसफुसाहट  
कानाफूसी 435.4

जनांतिक वचन 465.3

फुसफुसाहट 299.14 ⇐

फुसलाई  
सम्मोहन 367.2

फुसलाऊ  
घकमेबाज 819.18

फुसलाना  
उकसाना 499.8

फुसलाना 374.16 ⇐

सम्मोहन करना 367.5

फुसलाने वाला  
उकसाने वाला 499.13

फुसलाया [फुसलाई]  
उकसाया [उकसाई] 499.12

फुसलाव  
फुसलाया 374.10

फुसलाया  
उकसाया 499.4

फुसलाया 374.10 ⇐

फुहार  
क्षीण वर्षा 54.9

फुहार 1032.9 ⇐

फुहार छोड़ना  
फुहारना 1032.25

फुहारना  
छिड़कना 668.20

फुहारना 1032.25 ⇐

फुहार यंत्र  
फुहारा 1032.10

फुहार सिंचन  
फुहार सिंचन 548.15 ⇐

फुहारा  
फुहारा 1032.10 ⇐

सिंचन फुहारा 1032.12

फुही  
फुहार 1032.9

फुंक  
अकड़ 734.9

अभिमंत्रण 758.6

कश 213.15

कूक 1046.9

फुंक 245.12 ⇐

भूत निवारण 759.8

फुंक (दे.)  
फुंकार 298.4

फुंकना  
अपव्यय करना 644.15

अभिमंत्रण करना 758.33

कूकना 1046.20

भूत उतारना 759.18

फुंकनी  
फुंकनी 85.23

फुंक भरना  
कूकना 1046.20

फुंक मारना  
अग्नि उदीप्त करना 107.12

फुंक बाघ  
शुभिर बाघ 461.20

फुंका  
अभिमंत्रण 758.8

फुंकनी 85.23

भूत निवारण 759.8

फुंका [फुंकी]  
अभिमंत्रित 758.40

फुंकी  
फुंकनी 85.23

फुंगा  
गुबरेला 122.18

फुंद फुंदारा [फुंद फुंदारी]  
फुंदनेदार 569.30

फुंफुं  
फुंकार 298.4

फुई  
फुईद 549.9

फुहार 1032.9

फुट  
एकता भंग 699.2

परस्पर अनिर्वाह 703.4

फुट 190.25 ⇐

भेद नीति 819.7

विस्फोट 544.8

फुट आना  
उद्भिद होना 117.12

फुट डालने वाला  
एकता भंग कर्ता 699.15

फुटता [फुटती]  
उत्क्रांतशील 21.35

फुटवार  
एकताहीन 699.14

फुटन  
अंकुरण 117.1

उद्भेदन 117.4

टूट फूट 539.2

फोड़ 544.7

फुटना  
अंकुर निकलना 117.10

अवसरवादी होना 827.12

उत्क्रांत होना 21.28

जर्जर होना 536.6

प्रस्फुटित होना 119.6

भंजित होना 539.7

फुट पड़ना  
एकता भंग होना 699.11

फुटा [फुटी]  
अंकुरित 117.18

उद्भिद 117.20

एकताहीन 699.14

जर्जर 536.11

प्रस्फुटित 119.10

फोड़ा [फोड़ी] 544.22

फुटा नसीब  
दुर्भाग्य 260.18

फूटापन जर्जरता 538.3	फूलवार पुष्पयुक्त 115 17	उच्छिष्ट आहार 198 3	श्रेष्ठ हीलिंग (अँ) धर्म चिकित्सा 172.1
फूड राशनिंग (अँ) राशनिंग 186.10	फूलना अभिमानित होना 858 7	फेकना उछालना 1052 15	फेन फेन 88.15 ⇌
फूत्कार अभिमंत्रण 758 6	फुलित होना 118 8	झोंकना 688 23	लहराग्र 1040 22
फुकार 298.4	प्रस्फुटित होना 119.6	नीचे फेकना 1052 18	फेन बनना फेन बनना 88.18 ⇌
फूक 245.12 *	फूलना 988.8 ⇌	प्रक्षेपण करना 1052 14	फेनयुक्त फेनिल 88 26
फूकृति फुकार 298.4	मान करना 374 12	बाहर करना 999 10	फेनाग्र बुलबुला 88 14
फूफस फूफस 724.15 ⇌	युवा होना 231.11	रद्दी करना 528.16	फेनिज समंदर झाग 87.18
फूफस: पति फूफसरा 724 14	फूल पत्नी छीट 578 7	शस्त्र चलाना 930 5	फेनिल फेनिल 88 26 ⇌
फूफसरा फूफसरा 724 14 ⇌	फूल पत्नी: औषध पत्रौषध 176.5	फेकने वाला प्रक्षेपयिता 1052 20	फेनाग्र रीठा 220.25
फूफसरा: पत्नी फूफस 724 15	फूल पत्थर विपरीतता उपमान सूची 310 13	फेक फंदा फेक फंदा 1013.10 ⇌	फेनी फेनी 200 28 ⇌
फूफा फूफा 722 28 ⇌	फूलबाग पुष्प उपवन 12 12	फेका [फेकी] रद्दीकृत 526 17	फेनी (दे. उपाहार) फेनी 203 25
फूफा ससुर फूफसरा 724.14	फूलबीन फूलबीन 283.9 ⇌	फेका सामान रद्दी 526 13	फेनीय जल मृदु जल 88.3
फूफी फूफी 722.27 ⇌	फूल माला पुष्प माला 228 31	फेंट घिनाई फेंट 599 25	फेफड़ा फुफफुस 146 2
फूफी सास फूफस 724 15	फूल: रस पुष्प रस 84 6	फेंट फेंट 586 30 ⇌	फेयर (अँ) प्रदर्शनालय 669 17
फूफू फूफी 722 27	फूला खील 200 8	फेंट फेटाई 195 13	फेर अलबेट 975.10
फूल अस्थि 133.1	फूला [फूली] पिलपिला [पिलपिली] 154 32	फेटाई 195 13	उकसावा 499 4
उपवन पुष्प 14 1	पुष्पित 118 14	लपेट 575 1	भाग्य चक्र 260 15
काँसा 94 2	प्रस्फुटित 119 10	फेंट कसना समृद्ध होना 491 8	भूत बाधा 759 7
गुल 106 14	फूला [फूली] 988.13 ⇌	फेटना फेटना 195 45 ⇌	भ्रम 342 1
छीट 578 7	मांसल 154.33	फेटा कटि 147 7	वलय 975 9
पुष्प 115.6	फूला न समाना अति आनदित होना 382 12	कमरबंद 571 8	फेरन पैरहन 585 25
बेलबूटा 578.13	फूलापन फूलाव 988 4	फेटा कटि 147 7	फेरना माला जपना 749 40
भस्मावशेष 254.2	फूलो की सैज पुष्प शय्या 594 3	फेटा कटि 147 7	फेर पलटा गौना 800 11
रज 130 9	फूस अप्रकेश 137 3	फेटा फेटाई 195 13 ⇌	फेरफार उत्थल पुथल 532 4
सफेद दाग 165 13	उठल भूसा 114.5	फेटा फेटाई 195 13 ⇌	फेरवर्तन 532 1
फूल आना पुष्पित होना 118.8	फूसी रूसी 215.7	फेटाई फेटाई 195 13 ⇌	फेर बदल परिवर्तन 532 1
फूल कर कुप्या होना अति आनदित होना 382 12	फूहड़ अप्रवीण 304.9	फेटाई फेटाई 195 13 ⇌	रदो बदल 532 5
फूल कील बताशा कील 1016.11	असभ्य 734 14	फेटाई फेटाई 195 13 ⇌	फेरवट अलबेट 975 10
फूल: गुच्छा शाखा पुष्प समूह 115.8	फूहड़ 403.5 ⇌	फेटाई फेटाई 195 13 ⇌	वलय 975 9
फूल गोभी फूल गोभी 189 17 ⇌	सुरुचिहीन 401 17	फेटाई फेटाई 195 13 ⇌	फेरा गश्त 1083 16
फूल: चादर मज़ार: चादर 255 9	फूहड़ता असभ्यता 734 1	फेटाई फेटाई 195 13 ⇌	चक्रावृत्ति 71 4
फूल डलिया फूल डलिया 677.11 ⇌	फूहड़पन अप्रवीणता 304 4	फेटाई फेटाई 195 13 ⇌	द्रिप 1087 11
फूलदान गुलदान 12.35	फूहड़पन फूहड़पन 403.2 ⇌	फेटाई फेटाई 195 13 ⇌	परिक्रमा 1033 3
फूलदानी गुलदान 12.35	फूही फूहार 1032.9	फेटाई फेटाई 195 13 ⇌	परिधि चक्रण 1033 2
	फेक प्रक्षेप 1052.1	फेटाई फेटाई 195 13 ⇌	पुनरागमन 1093 5
	फेकन अधोक्षेपण 1052 12	फेटाई फेटाई 195 13 ⇌	लपेट 575.1
		फेटाई फेटाई 195 13 ⇌	सप्तपदी 800.24

## फेराफेरी

सीदागर फेरी 1083 17  
 फेराफेरी  
 घोटाला 865 8  
 फेरा लगाना  
 परिक्रमा करना 1033.15  
 फेरी लगाना 1083.24  
 फेरी  
 गहत 1083 16  
 थक्रावृत्ति 71 4  
 जुलूस 1088 7  
 परिक्रमा 1033 3  
 लपेट 575 1  
 सप्तपदी 800 24  
 सीदागर फेरी 1083 17  
 फेरी जुकान  
 फेरी जुकान 662.3 ⇐  
 फेरी पर निकलना  
 फेरी लगाना 1083.24  
 फेरी राकेट (अँ)  
 स्पेस शटल 1075 11  
 फेरी लगाना  
 फेरी लगाना 1083.24 ⇐  
 फेरी बाला  
 फेरी बाला 661 14 ⇐  
 फेरे  
 विवाह 799.1  
 सप्तपदी 800.24  
 सात उपमान सूची 948 30  
 फेरे डालना  
 विवाह करना 799 45  
 फेरे पड़ना  
 विवाह होना 799 42  
 फेरे लेना  
 विवाह करना 799 45  
 फेरे होना  
 विवाह होना 799 42  
 फेल (अँ)  
 अनुत्तीर्ण 322 40  
 फेशाल (अँ)  
 मुख मंडल चर्या 225 6  
 फेस  
 फेस 413.21 ⇐  
 फेस (अँ)  
 फेस 413 21  
 फ्रिटेसी (अँ)  
 अद्भुत रस 455 12  
 फ्रिस (अँ)  
 बाइ 604 10  
 फ्रिंसी ड्रेस  
 फेसी ड्रेस 589.21 ⇐  
 फ्रिंसी ड्रेस (अँ)  
 फेसी ड्रेस 589 21  
 फ्रिकल्डी (अँ)  
 अध्यापक वर्ग 323 10  
 शिक्षालय विभाग 321 15  
 फ्रिक्टरी (अँ)  
 यत्रालय 558 12

फ्रिक्टरी बर्कर (अँ)  
 करखनदार 651 22  
 फ्रिक्स  
 फ्रिक्स 444.33 ⇐  
 फ्रिक्स (अँ)  
 फ्रिक्स 444.33  
 फ्रिक्सिमली (अँ)  
 फ्रिक्स 444.33  
 फ्रिज़  
 तुर्की टोपी 584.11  
 फ्रिट (अँ)  
 यसा 132 4  
 फ्रिटेसी (अँ)  
 विलक्षण दर्शन 342.8  
 फ्रिडरेशन (अँ)  
 महासंघ 692 15  
 राजनीतिक दल 885.15  
 राज्य संघ 881 8  
 फ्रिडरल (अँ)  
 राज्य सघीय 881.33  
 फ्रिडम  
 फ्रिडम 959.24 ⇐  
 फ्रिडम (अँ)  
 गहराई माप 958.17  
 फ्रिडम (अँ)  
 फ्रिडम 959.24  
 फ्रिडम: 1,000  
 समुद्री मील 959 26  
 फ्रिडमर  
 फ्रिडमर 958.21 ⇐  
 फ्रिमिली (अँ)  
 परिवार 726 1  
 फ्रिमिली साइज़ (अँ)  
 इकोनमी साइज़ 961 14  
 फ्रियाज़  
 दानवीर 641 28  
 फ्रियाज़ी  
 दानीत्व 641 2  
 विशाल हृदयता 817 5  
 फ्रिप (अँ) (बीज रूप)  
 फ्रिड्ट व्रत (अब अधिकतर प्रचलित) 1035  
 फ्रिपस (अँ)  
 लीह 93 17  
 फ्रिरी (अँ)  
 नौका 1072 2  
 फ्रिरेनहाइट (अँ)  
 फ्रिड्ट व्रत (अब अधिकतर प्रचलित) 1035  
 फ्रिरेनहाइट: 321  
 हिमाक 103 15  
 फ्रिरेनहाइट क्रम  
 फ्रिड्ट व्रत (अब अधिकतर प्रचलित) 1035  
 फ्रिरेनहाइट क्रम (अब अधिकतर प्रचलित)  
 फ्रिड्ट व्रत (अब अधिकतर प्रचलित) 1035 ⇐  
 फ्रिरेनहाइट: तालिका  
 फ्रिरेनहाइट: तालिका 103.6 ⇐  
 फ्रिरोटाइप (अँ)  
 फ्रोटोग्राफ़ी प्राथमिक विधि सूची 405.5

फेल  
 राशि 686 2  
 फेलन  
 बिछन 592 3  
 विस्फुरण 119 4  
 शयन 1027.1  
 फेलना  
 उँडलना 1032.18  
 खिड़ना 1032 19  
 प्रसारित होना 979.10  
 प्रस्फुटित होना 119 6  
 फूलना 988.8  
 रोना 386.16  
 लालसा करना 359.14  
 वर्धित होना 979.12  
 विकसित होना 534.9  
 विस्तीर्ण होना 981.6  
 व्याप्त होना 981.8  
 शाखा निकलना 117.14  
 सीमातिक्रमण करना 1001.32  
 फेलने वाला  
 प्रसारशील 979 18  
 फेला [फेली]  
 क्रमहीन 992 5  
 प्रसारित 979.17  
 बिखरा [बिखरी] 668.25  
 बिछा [बिछी] 592 16  
 महाकाय 154.22  
 योजनाहीन 520 21  
 विकसित 534.14  
 विकीर्ण 288.11  
 विस्तीर्ण 981.10  
 विस्फारित 119.12  
 व्यापक 981 12  
 फेलाई  
 विस्फारण 119.5  
 फेलाए  
 विस्फारित 119 15  
 फेलाना  
 छितराना 668 21  
 जोड़ करना 954.11  
 प्रचार करना 442.17  
 प्रसार करना 979.11  
 बिखेरना 668 14  
 बिछाना 592.10  
 विकीर्ण करना 288 9  
 विकेंद्रित करना 971.15  
 विस्तार करना 981 7  
 फेलाने वाला  
 प्रसारक 979 19  
 फेलापन  
 क्रमहीनता 992 1  
 प्रस्फुटितता 119 2  
 विस्तीर्णता 981 1  
 व्यापकता 981 3  
 फेला पसरा [फेली पसरी]  
 विस्तीर्ण 981 10

फेलाया [फेलाई]  
 आघात वर्धित 545.29  
 फेलाय  
 आयतन 966 3  
 प्रसार 979.3  
 बाइ 22.1  
 बिखराव 668 1  
 ब्रह्मांड 1.1  
 रोग विस्तार 163 12  
 विकास 534 4  
 विस्तार 981.2  
 फेलायट  
 उँडलाय 1032.4  
 फेलायदार वृक्ष  
 छाया वृक्ष 111.19  
 फ्रैल्ट पेन  
 फ्रैल्ट पेन 416.12 ⇐  
 फ्रैल्ट पेन (अँ)  
 फ्रैल्ट पेन 416 12  
 फ्रैल्ट पेन टिप  
 फ्रैल्ट पेन टिप 416.13 ⇐  
 फ्रैल्ट पेन टिप (अँ)  
 फ्रैल्ट पेन टिप 416.13  
 फ्रैल्ट हैट  
 फ्रैल्ट हैट 584.4 ⇐  
 फ्रैल्ट हैट (अँ)  
 फ्रैल्ट हैट 584 4  
 फ्रैशन  
 नया फ्रैशन 222.12  
 प्रचलन 514 7  
 फ्रैशन 222.11 ⇐  
 फ्रैशन (अँ)  
 फ्रैशन 222.11  
 फ्रैशन करना  
 फ्रैशन करना 222.16 ⇐  
 फ्रैशन परस्ती  
 फ्रैशनप्रियता 222 13  
 फ्रैशनपसंद  
 फ्रैशनप्रिय 222 19  
 फ्रैशनप्रिय  
 फ्रैशनप्रिय 222.19 ⇐  
 फ्रैशनप्रियता  
 फ्रैशनप्रियता 222 13 ⇐  
 फ्रैशन प्रेम  
 फ्रैशनप्रियता 222 13  
 फ्रैशनहीन  
 फ्रैशनहीन 222.20 ⇐  
 फ्रैशानुकूल  
 फ्रैशानुकूल 222 18 ⇐  
 फ्रैशानेबल (अँ)  
 फ्रैशनप्रिय 222 19  
 फ्रैसला  
 अनुबध 339 1  
 जय पराजय 912 7  
 निर्णय 328.4  
 न्याय निर्णय 877.14  
 विवाद समाधान 877.4  
 संकल्प 500 1



समाधान 334 6  
 फ़ैसला करना  
 न्याय करना 874.32  
 फ़ैसला कराना  
 विवाद समाधान करना 877 20  
 फ़ैसलाकुन  
 निर्णयात्मक 328 11  
 फ़ैसले पर पहुँचना  
 दुबिया मिटना 500.7  
 फ़ैस्टिवल (अँ)  
 उत्सव 56 1  
 समारोह 694 15  
 फोक  
 अनाज छिलका 116 8  
 फोक 526.2 ⇐  
 रसहीन 84 18  
 स्वादहीन 275 16  
 फोक आर्ट (अँ)  
 लोक कला 397 6  
 फोकट  
 निरशुल्क 665 8  
 फोक 526.2  
 फोकट का  
 निरशुल्क 665.8  
 फोकट की कमाई  
 अभ्रम आय 643 3  
 फोकट में  
 निरशुल्कतः 665 9  
 फोक पेंटिंग (अँ)  
 लोक चित्र 404 9  
 फोकल पाइंट (अँ)  
 अग्रशु 971 2  
 फोकस करना  
 संपुंजित करना 288.8  
 फोकसिंग (अँ)  
 संपुंजन 288.4  
 फोकसू (अँ)  
 संपुंजित 288.10  
 फोका  
 बुलबुला 88.14  
 फोका [फोकी]  
 अप्रबल 488.14  
 अबलिष्ठ 159.12  
 असघन 80.10  
 फोटू  
 फोटो 405.1  
 फोटो  
 फोटो 405.1 ⇐  
 फोटो (अँ)  
 फोटो 405.1  
 फोटो अंकन  
 फोटोग्राफिंग 405.14  
 फोटो कंपोजिंग (अँ)  
 फोटो टाइपसेटिंग 413.10  
 फोटो कापी  
 अनुलिपिः प्रकार सूची 414.8  
 फोटो खींचना  
 फोटोग्राफी करना 405.26

फोटोग्राफ (अँ)  
 फोटो 405 1  
 फोटोग्राफर  
 फोटोग्राफर 405.15 ⇐  
 फोटोग्राफर (अँ)  
 फोटोग्राफर 405.15  
 फोटोग्राफिंग  
 फोटोग्राफिंग 405 14 ⇐  
 फोटोग्राफिंग (अँ)  
 फोटोग्राफिंग 405.14  
 फोटोग्राफी  
 कला सूची 397.12  
 फोटोग्राफी 405 13 ⇐  
 फोटोग्राफी करना  
 फोटोग्राफी करना 405.26 ⇐  
 फोटोग्राफीः प्रारंभिक विधि सूची  
 फोटोग्राफी प्रारंभिक विधि सूची 405.5 ⇐  
 फोटो टाइपसेटिंग  
 फोटो टाइपसेटिंग 413.10 ⇐  
 फोटो टाइपसेटिंग (अँ)  
 फोटो टाइपसेटिंग 413 10  
 फोटो प्रिंट  
 फोटो प्रिंट 405 6 ⇐  
 फोटो प्रिंट (अँ)  
 फोटो प्रिंट 405 6  
 फोटोग्रिनिसा  
 फोटोग्रिनिसा 912.11 ⇐  
 फोटोग्रिनिसा (अँ)  
 फोटोग्रिनिसा 912 11  
 फोटो फ़िल्म  
 फोटो फ़िल्म 405 21 ⇐  
 फोटो प्रलेश (अँ)  
 प्रलेश 405.19  
 फोटोमीटर (अँ)  
 भा मापी 958.54  
 फोटोमीटरी (अँ)  
 प्रकाश मापिकी 285.32  
 फोटो रंग  
 फोटो रंग 290 17 ⇐  
 फोटो सेना  
 फोटोग्राफी करना 405.26  
 फोटोस्टैट  
 अनुलिपिः प्रकार सूची 414.8  
 फोटोस्टैट 414.7 ⇐  
 फोटोस्टैट (अँ)  
 फोटोस्टैट 414.7  
 फोक  
 फोक 544.7 ⇐  
 भंजन 539.1  
 विस्फोट 544.8  
 फोकक  
 भंजन 539.15  
 फोकना  
 बारुद से खोदना 1018.14  
 भंजित करना 539.8  
 विस्फोट करना 544.10  
 फोका  
 फोका 167.2 ⇐

फोका [फोकी]  
 फोका [फोकी] 544.22 ⇐  
 फोता  
 अंडकोश 152.11  
 फोतेदार  
 कोशाध्यक्ष 630 12  
 फोन (अँ)  
 टेलीफोन 300 22  
 फोनोग्राफ (अँ)  
 ग्रामोफोन 300.14  
 फोबिया (अँ)  
 आतंकानुभूति 353.6  
 फोरकैसल (अँ)  
 अगला डैक 1073.28  
 फोरग्राउंड  
 फोरग्राउंड 404.20 ⇐  
 फोरग्राउंड (अँ)  
 अग्रभूमि 994.8  
 फोरग्राउंड 404 20  
 फोरपोस्टर (अँ)  
 मसहरीदार पलंग 594.11  
 फोरम (अँ)  
 विचार गोष्ठी 694 7  
 फोरमैन (अँ)  
 श्रमिक अध्यक्ष 652.20  
 फोर-व्हीलर (अँ)  
 चतुर्ध्रुव यान 1070.5  
 फोरशार्टनिंग  
 फोरशार्टनिंग 404.21 ⇐  
 फोरशार्टनिंग (अँ)  
 फोरशार्टनिंग 404 21  
 फोर-सीटर (अँ)  
 फटफटिया 1071.53  
 फोर्क  
 फोर्क 681.15 ⇐  
 फोर्क (अँ)  
 कटलरी सूची 681 14  
 फोर्क 681 15  
 फोर्क लिफ्ट  
 फोर्क लिफ्ट 1062.8 ⇐  
 फोर्क लिफ्ट (अँ)  
 फोर्क लिफ्ट 1062.8  
 फोर्ज (अँ)  
 लुहारी भट्ठी 109.13  
 फोर्ट (अँ)  
 दुर्ग 620.7  
 फोर्टनाइटली (अँ)  
 पाक्षिक 71.18  
 फोर्थ ऐस्टेट (अँ)  
 पत्रकारिता 445.7  
 फोर्स (अँ)  
 गतिक बल 1050.1  
 फोलियो (अँ)  
 पृष्ठ 447.20  
 पृष्ठ संख्या 447.21  
 फोल्ड (अँ)  
 तहः मोड़ 975.17

फोल्डर  
 फोल्डर 442.8 ⇐  
 फोल्डर (अँ)  
 फोल्डर 442 8  
 फोहा  
 फाहा 174.19  
 फॉट  
 फॉट 413.22 ⇐  
 फॉट (अँ)  
 फॉट 413 22  
 फ्रीआरा  
 स्नान फुहारा 221.18  
 फ्रीइल (अँ)  
 डॉक 283 18  
 पत्री 283.17  
 फ्री (अँ)  
 कोहरा 90 10  
 फ्रीज  
 सेना 932 1  
 फ्रीजदार  
 नगर प्रशासक 891.7  
 सेनापति 935 1  
 फ्रीजदारी  
 हाथापाई 905.23  
 हिंसा प्रतिहिंसा 251.14  
 फ्रीजदारी अदालत  
 आपराधिक न्यायालय 874.8  
 फ्रीज करंट  
 सेना 932 1  
 फ्रीजी  
 सैनिक 934 1  
 सैन्य 932 34  
 फ्रीजी गाड़ी  
 सैनिक यान 1070.16  
 फ्रीजीपन  
 युद्ध प्रेम 907.4  
 सैनिकता 932.2  
 फ्रीत  
 मृत्यु 249 1  
 फ्रीत होना  
 मरना 249.18  
 फ्रीरन  
 शीघ्रतः 496.13  
 फ्रीरन से पेशतः  
 शीघ्रतः 496.13  
 फ्रीरमाइका  
 फ्रीरमाइका 581.4 ⇐  
 फ्रीरमाइका (अँ)  
 फ्रीरमाइका 581.4  
 फ्रीरमाइका आदि  
 काष्ठ आवरण 990.14  
 फ्रीरमूला (अँ)  
 गुर 517.4  
 सिद्धांत 343.9  
 फ्रीरबडिंग (अँ)  
 अग्रप्रेषण 1054.2  
 फ्रीरबडिड (अँ)  
 अग्रप्रेषित 1054 17

## फौरी

### फौरी

अलरिम कालीन 60 12  
 शीघ्र करणीय 496 10  
 फौरेन (अं)  
 परराष्ट्रीय 881 30  
 फौरेनिक मैकेनिक्स (अं)  
 विधिक चिकित्सा 173.4  
 फौर्म  
 फौर्म 412.25 ⇐  
 फौर्म (अं)  
 फौर्म 412.25  
 फौर्मेशन प्रसाइट (अं)  
 दल उद्धान 1081 15  
 फौर्मेट  
 फौर्मेट 520 11 ⇐  
 फौर्मेट (अं)  
 फौर्मेट 520 11  
 फौलाद  
 इस्पात 93 11  
 फौलादी  
 दुककाय 160 12  
 फौयारा  
 फुहारा 1032 10  
 फौसिल (अं)  
 जीवारम 77 3  
 फ्यूज  
 फ्यूज 102.17 ⇐  
 फ्यूज (अं)  
 फ्यूज 102 17  
 बारूद. पलीता 927 21  
 फ्यूज बायर (अं)  
 फ्यूज 102 17  
 फ्यूहरर (अं)  
 तानाशाह 882 28  
 फ्रेट (अं)  
 मोरघा 907.10  
 फ्रेटियर (अं)  
 सीमांत 1001.19  
 सीमा 1001 1  
 फ्राइंग (अं)  
 भुरजाई 195 29  
 फ्राइंग पैन  
 फ्राइंग पैन 682.15 ⇐  
 फ्राइंग पैन (अं)  
 कडाही 682.7  
 पाक भांड सूची 682.2  
 फ्राइंग पैन 682 15  
 फ्राइडे (अं)  
 शुकवार 46 8  
 फ्रिगेट (अं)  
 नौका सूची 1072 3  
 फ्रिज (अं)  
 रेफ्रिजरेटर 671 12  
 फ्री (अं)  
 फ्री साइज 961 7  
 फ्रीज (अं)  
 फ्रीज 511.12

### फ्रीज करना

हिमकृत करना 105.17  
 फ्रीजर  
 फ्रीजर 105.10 ⇐  
 फ्रीजर  
 फ्रीजर 671.11 ⇐  
 फ्रीजर (अं)  
 फ्रीजर 671.11  
 फ्रीजर (अं)  
 फ्रीजर 105 10  
 फ्रीजिंग (अं)  
 हिमन 105.3  
 फ्रीजिंग पाइंट (अं)  
 हिमांक 103.15  
 फ्री टिकट (अं)  
 पास 622 15  
 फ्रीलांसर (अं)  
 स्वतंत्र पत्रकार 445.10  
 फ्री वर्स (अं)  
 छंदमुक्त पद्य 451 6  
 मुक्त छंद 452 2  
 फ्री साइज  
 फ्री साइज 961 7 ⇐  
 फ्री साइज (अं)  
 फ्री साइज 961 7  
 फ्रूट कोर्क (अं)  
 कटलरी सूची 681 14  
 फ्रेज (अं)  
 वाक्यांश 424 9  
 फ्रेट (अं)  
 माल भाड़ा 622.12  
 फ्रेटर (अं)  
 माल पोत 1072 35  
 मालवाहक विमान 1074.14  
 फ्रेटिंग (अं)  
 भार वहन 1061.2  
 फ्रेम (अं)  
 चौखटा 604 9  
 टेक स्टैंड 596.8  
 फ्रिल्म फ्रेम 405.22  
 फ्रेमवर्क (अं)  
 परिकल्पना 520 5  
 फ्रिच बीन  
 साग सब्जी सूची 189.4  
 फ्रिच लीच (अं)  
 नागा 494.7  
 फ्रिजी (अं)  
 तीव्रोन्माद 354.8  
 फ्रिक्चर (अं)  
 अस्थि भंग 168 3  
 फ्रिक्को (अं)  
 भित्ति चित्र 404.7  
 फ्रोजन (अं)  
 हिमित 105.23  
 फ्रोक  
 फ्रोक 585.40 ⇐

फ्रोक (अं)

### फ्रोक: घेर

फ्रोक: घेर 585.74 ⇐  
 फ्रलाश: टंकी  
 फ्रलाश: टंकी 679.29 ⇐  
 फ्रलाइंग (अं)  
 उड़डयन 1030.11  
 फ्रलाइंग बोट (अं)  
 नौका विमान 1074.11  
 फ्रलाइंग सीत्तर (अं)  
 उड़न तरतरी 1074.4  
 फ्रलाइंग स्पीड (अं)  
 उड़ान गति 1081.32  
 फ्रलाइट (अं)  
 एक उद्धान 1030.12  
 नमोत्तरण 1081.18  
 विमान उद्धान 1081 11  
 फ्रलाइट आपरेशन (अं)  
 सैनिक उद्धान 1081.16  
 फ्रलाइट प्लान (अं)  
 उद्धान योजना 1081.10  
 फ्रलाई  
 फ्रलाई 571.13 ⇐  
 फ्रलाई (अं)  
 फ्रलाई 571.13  
 फ्रलाईओवर (अं)  
 ऊपर पुल 1065 9  
 फ्रलाई करना  
 नमोत्तरित होना 1081 45  
 फ्रलाई पास्ट (अं)  
 सलामी उद्धान 1081 17  
 फ्रलाई व्हील (अं)  
 गतिपाल चक्र 1077 40  
 फ्रलास्क (अं)  
 धरमस 678.12  
 फ्रिलेट (अं)  
 धिप्पड़ 938.40  
 फ्रलीट  
 फ्रलीट 932.27 ⇐  
 फ्रलीट (अं)  
 नौसैनिक बेड़ा 1072.52  
 फ्रलीट 932 27  
 फ्रलुओरीन  
 फ्रलुओरीन 86.8 ⇐  
 फ्रलुओरीन (अं)  
 फ्रलुओरीन 86 8  
 फ्रलुइड आउंस (अं)  
 तरल औंस 959 50  
 फ्रलुइड ड्राम (अं)  
 तरल ड्राम 959.51  
 फ्रलीक (अं)  
 सेना पार्श्व 933.5  
 फ्रलीक्स क्लायथ (अं)  
 लिनन 580.39  
 फ्रलीक्सविल (अं)  
 नम्य 1050.32  
 फ्रलीक्सविलिटी (अं)  
 नम्यता 1050.19

### फ्रलेग (अं)

ध्वजा 408.4  
 फ्रलेग मार्च  
 फ्रलेग मार्च 1063.15 ⇐  
 फ्रलेग मार्च (अं)  
 फ्रलेग मार्च 1083.15  
 फ्रलेग रेस  
 फ्रलेग रेस 484.8 ⇐  
 फ्रलेग रेस (अं)  
 फ्रलेग रेस 484.8  
 फ्रलेगशिप (अं)  
 फ्रलेगशिप (अं) 1072.48 ⇐  
 फ्रलेट  
 फ्रलेट 602.27 ⇐  
 फ्रलेट (अं)  
 फ्रलेट 602.27  
 फ्रलेनल (अं)  
 फ्रलालेन 580.32  
 फ्रलेश  
 फ्रलेश 405.19 ⇐  
 फ्रलेश 47P ... ⇐  
 फ्रलेश (अं)  
 फ्रलेश 405.19  
 फ्रलेश 478 14  
 फ्रलेश फ्रौरवर्ड  
 फ्रलेश फ्रौरवर्ड 463.32 ⇐  
 फ्रलेश फ्रौरवर्ड (अं)  
 फ्रलेश फ्रौरवर्ड 463 32  
 फ्रलेश बैंक  
 फ्रलेश बैंक 463.31 ⇐  
 फ्रलेश बैंक (अं)  
 फ्रलेश बैंक 463.31  
 फ्रलोर (अं)  
 फ्रार् 610.1  
 मंजिल 612 1  
 फ्रलीपी (अं)  
 फ्रलीपी डिस्क 951.12  
 फ्रलीपी डिस्क  
 फ्रलीपी डिस्क 951.12 ⇐  
 फ्रलीपी डिस्क (अं)  
 फ्रलीपी डिस्क 951 12  
 फ्रल्युट (अं)  
 बॉसुरी 461.03

## ब

### बंक

कोणयुक्त 970 12  
 बंक 631.1  
 बंक 974 16  
 वीर 396.6  
 बंक (अं)  
 नागा 494.7  
 बंकता  
 बंकता 974.1  
 बंकनाल  
 बंकनाल  
 बंकनाल 85.24

**बक मारना**  
नागा करना 494 20

**बंकर**  
बकर 594 15 ⇐  
बकर (अँ)  
बकर 594 15

**बैंकाई**  
बैंकपन 880 7

**बंकिम**  
बोंका [बोंकी] 860 23  
वक्र 974 16  
वीर 396 8  
साहसी 394 13

**बकिमता**  
वक्रता 974 1

**बंकरता**  
बैंकपन 880 7

**बैंकअन**  
घुटरियो 1083 30

**बंग**  
पश्चिम बंगाल 28 48  
बांग्लादेशीय 27 27

**बैंगला**  
बैंगला 602 13 ⇐

**बंगलीर**  
कर्नाटक राजधानी 28 20

**बंगसार**  
जहाज़ सीढ़ी 613 7  
नीचे 807 12

**बंगाल**  
पश्चिम बंगाल 28 48  
बंगाल का जादू  
पूर्व का जादू 474 5

**बंगाल की खाड़ी**  
बंगाल की खाड़ी 24 18 ⇐

**बंगाली**  
बांग्लादेशीय 27 27  
भारत राष्ट्रभाषा सूची 421 4

**बंगाली रसगुल्ला**  
बंगाली रसगुल्ला 203 35 ⇐

**बंगीय**  
बांग्लादेशीय 27 27

**बंधकः** ऋण पाता  
बधक कर्ता 833 39

**बंधना**  
छल करना 827 14

**बंजर**  
अनुर्वर (भूमि) 552 17  
ऊसर 552 3

**बंजुल**  
अशोक 13 4

**बंट**  
भाग कर्म 955 13

**बंटन**  
वितरण 858 7

**बंटयाना**  
वितरित करना 856 15

**बंटवार**  
उत्तराधिकार विभाजन 823 6  
परिवार विभाजन 699 4  
भाग कर्म 955 13  
विभाजन 699 3

**बंटा**  
लोटा 684 17

**बंटा [बंटी]**  
ठिंगना 154 18

**बंटा [बंटी]**  
भाग कृत 955 24  
वितरित 856 16  
विभाजित 699 18

**बंटाई**  
बंटाईदारी 553 21

**बंटाईदार**  
बंटाईदार 553 22 ⇐

**बंटाईदारी**  
बंटाईदारी 553 21 ⇐

**बंटा डार**  
नाश 531 1

**बंटित**  
वितरित 856 16

**बंटी**  
लुटिया 684 16

**बंटी संख्या**  
मित्र संख्या 949 16

**बंड**  
विकलाग 153 15

**बंडता**  
विकलागता 153 2

**बंडल (अँ)**  
गट्ठर 674 1  
गठरी 674 2  
गड्डी 686 12  
पुलिदा 674 8  
पूला 686 19

**बंडा**  
अरदी 189 5

**बंडी**  
फतूही 585 58  
बडी 587 3 ⇐

**बैंडेर**  
बैंडेर 611 24 ⇐

**बंद**  
अप्रवाहित (जल) 21 40  
अप्रस्फुटित 120 12  
आबद्ध 1013 22  
गतिरुद्ध 1047 23  
गतिहृत 1047 21  
गीत पद 451 21  
गुप्त 824 20  
छंद 452 1  
तनी 571 29  
निश्चल 1038 8  
निषिद्ध 880 12  
परिस्मित 1001 35  
पाश 1013 8

पिधानित 675 18  
पूर्ण अवकाश 494 15  
प्रयाहहीन 1041 9  
प्रवेश निषिद्ध 1094 28  
बन 202 34  
बाँध 22 2  
बाजूबद 228 20  
मुकुलित 120 8  
मुकुलितत 120 13  
मेघाच्छन्न 55 14  
रुद्ध 272 10  
विरामित 1048 6  
हड़ताल 902 11

**बंद करना**  
अवरुद्ध करना 1047 19  
गति हरना 1047 15  
निषिद्ध करना 880 6  
पिधानित करना 675 15  
मिचकाना 120 6  
विराम करना 1048 4

**बंद करने वाला**  
विराम कर्ता 1048 7

**बंद खोल**  
टैपेट गति 1035 4

**बंद गली**  
अधी गली 1063 50

**बंदगी**  
अभिवादन 1060 1  
परिचर्या 651 6  
पूजा 751 1  
प्रशंसा गीत 841 6

**बंद गोभी**  
पात गोभी 189 16  
साग सब्जी सूची 189 4

**बंद ट्रक**  
दैन 1071 15

**बंददिमाग**  
मताघ 343 18

**बंददिमागी**  
मताघता 343 11

**बंदनवार**  
बंदनवार 1059 8 ⇐

**बंद न होना**  
बंद न होना 119 8 ⇐  
विराम न होना 1049 6

**बंद बंद**  
मुकुलितत 120 13

**बंदर**  
नीका घाट 1069 12  
बंदर 127 86 ⇐  
बंदरगाह 1069 8  
जनर (मरुत) 781 5

**बंदरगाह**  
बंदरगाह 1069 8 ⇐  
बंदरगाहः अँक  
नीका घाट 1069 12  
बंदरगाहः लंगरगाह  
लंगरगाह 1069 11

**बंदर घाट**  
नीका घाट 1069 12

**बंदर धुड़की**  
भबकी 373 13

**बंदर बौट**  
बंदर बौट 699 9 ⇐

**बंदर बोट**  
घाट नीका 10/2 28  
नीका सूची 1072 3

**बंदर भालू नधाने वाला बाज़ीगर**  
मदारी 473 23

**बंदरिया**  
मादा बंदर 127 87

**बंदरी**  
मादा बंदर 127 87

**बंद हो जाना**  
गति स्तंभन होना 1047 17

**बंद होना**  
गति रुद्ध होना 1047 16  
गतिहृत होना 1047 14  
निश्चल होना 1038 5  
मुकुलित होना 120 5  
विराम होना 1048 3

**बंदा**  
आज्ञा पालक 347 12  
दास 651 8  
सेयक 651 25

**बंदा [बंदी]**  
कर्मचारी 652 27  
पूजक 751 3

**बंदा [बंदी]**  
कर्मचारी 652 27

**बंदाक**  
परजीवी वनस्पति 111 6

**बंदाज़ाबा**  
नागण्य व्यक्ति 853 4

**बंदानवाज़**  
दयालु 834 12

**बंदानवाज़ी**  
दयालुता 834 4  
दानीत्व 641 2

**बंदापरवर**  
दयालु 834 12

**बंदिश**  
अवरोध 1047 8  
कथा प्रस्तावना 466 13  
गीत 451 1  
नज़्म 452 23  
निषेध 880 1  
बंदिश 458 20 ⇐  
विघ्न 1047 12  
सगीत तर्ज़ 458 14

**बंदी**  
परिधारिका 651 29  
प्रशासक 841 31  
बंदी 868 18 ⇐  
बंदीकृत 868 34  
बंदीजन 841 15

## बंदीकक्ष

विजित दास 651 15  
सेविका 651 26  
हड़ताल 902 11

## बंदीकक्ष

कारागार कोठरी 868 23

## बंदीकरण

बंदीकरण 868 1 ⇨

## बंदी कर्ता

बंदी कर्ता 868.35 ⇨

## बंदीकृत

बंदीकृत 868 34 ⇨

## बंदीकृतता

बंदीकृतता 868 5 ⇨

## बंदीस्थाना

कारागार 868 21

## बंदी गाड़ी

बंदी गाड़ी 1070 15 ⇨

## बंदीघर

कारागार 868 21

## बंदीजन

प्रशसा गायक सूची 841 12

बंदीजन 841.15 ⇨

मगल गायक 796 16

विजित दास 651.15

## बंदी बनाना

बंदी बनाना 868.29 ⇨

## बंदी भाव

बंदीकृतता 868 5

## बंदी बैन

बंदी गाड़ी 1070 15

## बंदूक

बंदूक 927.4 ⇨

## बंदूक आनमन

बंदूक नमन 1060 25

## बंदूक: कारतूस

बंदूक कारतूस 927.10 ⇨

## बंदूक: गोली

बंदूक गोली 927 9 ⇨

## बंदूक: घोका

बंदूक घोका 927.7 ⇨

## बंदूकधी

बंदूकधारी 930 15

## बंदूक झुकाई

बंदूक नमन 1060.25

## बंदूकधारी

बंदूकधारी 930.15 ⇨

## बंदूक ध्वनि

बंदूक ध्वनि 296 19 ⇨

## बंदूक नमन

बंदूक नमन 1060.25 ⇨

## बंदूकबाज़

बंदूकधारी 930 15

## बंदूक: मक्खी

बंदूक मक्खी 927.8 ⇨

## बंदूक: सलामी

तोप सलामी: 1060 19

## बंदूक: हत्था

बंदूक: हत्था 596 28 ⇨

1300

## बंदेरी

दासी 651 10

## बंदोबस्त

कृषि भूमि व्यवस्था 553 1

प्रबंध 655 5

व्यवस्था 893 5

## बंदोबस्ती

व्यवस्था विषयक 893 12

## बंध

अनुबंध 339 1

चुटीलना 223 10

दल 691.1

पारा 1013 8

पुल 1065 6

बोध 22 2

शृंखला 569 26

स्थानक 464 26

स्नायु 131 13

हड़ताल 902 11

## बंधक

अनुबंधकारी 339 33

आबद्ध कर्ता 1013 23

बंधक 633 18 ⇨

बंधक वस्तु 633 26

बंधकित 633 38

रस्सी 570 5

सीमेंट 599 35

## बंधक करना

बंधक में देना 633 30

## बंधक कर्ता

बंधक कर्ता 633.39 ⇨

## बंधक ग्राही

बंधक ग्राही 633.19 ⇨

## बंधक दायित्व

बंधक दायित्व 633 20 ⇨

## बंधक दायित्व दाता

बंधक दायित्व दाता 633.21 ⇨

## बंधक दूकान

बंधक दूकान 633 24 ⇨

## बंधक देना

बंधक में देना 633 30

## बंधक देना ख़ाण लेना

बंधक में देना 633 30

## बंधक द्रोह

बंधक द्रोह 633 23 ⇨

## बंधकधारी

बंधक ग्राही 633.19

## बंधक पत्र

बंधक पत्र 633.25 ⇨

## बंधक में देना

बंधक में देना 633.30 ⇨

## बंधक में लेना

बंधक में लेना 633.31 ⇨

## बंधक रखना

बंधक में लेना 633.31

## बंधक रखवाना

बंधक में देना 633.30

## बंधक लेना

बंधक में लेना 633 31

## बंधक लेना ख़ाण देना

बंधक में लेना 633 31

## बंधक वस्तु

बंधक वस्तु 633.26 ⇨

## बंधक वापसी

बंधक वापसी 633.22 ⇨

## बंधक व्यवसायी

बंधक ग्राही 633 19

## बंधकापण

बंधक दूकान 633 24

## बंधकित

बंधकित 633.38 ⇨

## बंधकितता

बंधुवापन 643 18

## बंधकी

बंधक कर्ता 633 39

रखेस्ती 806 7

वेश्या 807 5

व्यभिचारिणी 806 11

## -बंधन

आबद्ध कर्ता 1013 23

## बंधन

आबद्धन 1013.1

आबद्धन उपकरण 1013.7

आवागमन चक्र 246 3

दिय्य पारा 928 4

पारा 1013 8

बंदीकरण 868 1

सयम 808 8

स्तभन 758.29

## बंधनमुक्त

उन्मुक्त 1015.9

## बंधन मुक्त करना

उन्मुक्त करना 1015.7

## बंधन मुक्त होना

उन्मुक्त होना 1015.6

## बंधन मुक्ति

उन्मुक्ति 1015.3

रिहाई 869 1

## बंधनहीन

अनासक्त 366 5

उन्मुक्त 1015.9

नियंत्रणहीन 900 8

## बंधनहीनता

अपरिसीमितता 1001.11

उन्मुक्तता 1015 4

## बंधना

अटकना 1024 9

आबद्धन उपकरण 1013.7

आसक्त होना 365.3

ग्रस्त होना 1013.16

जमना 81.11

पारा में फैसना 1013.21

प्रेम होना 368.12

रसोत्पादन होना 468.33

सम्प्राहित होना 367.4

## बंधनी

डोरी 570 1

बधेज 578.5

## बंधपत्र

आबद्ध पत्र 339 5

बंधपत्र 628.20 ⇨

## बंधयिता

आबद्ध कर्ता 1013 23

## बंधय्य

रग बधय्य 290.19

## बंधा [बंधी]

अक्षमकृत 488 17

अनुबंधित 339.32

आबद्ध 1013 22

गुच्छित 667 14

जमा [जमी] 81 18

जादुकृत 474 37

जुता [जुती] 1079 21

नियमित 71 10

निश्चल 1038.8

पैकड 1014 7

बंदीकृत 868 34

मात्रा में नियत 946.17

वचनबद्ध 339 39

संग्रथित 573.15

## बंधाई

आबद्धन 1013 1

क्रेटबंदी 1014 5

पारा बधन 868 7

पैकिंग 1014 1

यान जुताई 1079 1

संग्रथन 573 1

## बंधा काल

नियत काल 39.1

## बंधा डेर

गट्टर 674 1

## बंधान

ताल सम 458.28

परिपाटी 514.9

## बंधान

पुल 1065.6

## बंधान

बोध 22 2

रूटीन 514 6

## बंधान न होना

अनुबंध न होना 338.28

## बंधापन

अटकापन 1024.7

नियमितता 71 2

निश्चलता 1038 2

## बंधाल

बंधाल 1073.35 ⇨

## बंधित

अनुबंधित 339.32

आबद्ध 1013.22

पैकड 1014.7

## बंधितता

वैवश्यकता 339.8

<b>बंभी</b>	<b>बंबइया</b>	<b>बकट (अँ)</b>	<b>बक शीट (अँ)</b>
आबद्ध कर्ता 1013.23	आम सूची 190.10	बालटी 679.37	छर्रा 479.14
<b>बैथी चाल</b>	<b>बंबई (बोलचाल)</b>	<b>बक ध्यान</b>	<b>बकस</b>
नियंत्रित वेग 1043.2	महाराष्ट्र 28.58	कपटपूर्ण सरलता 818.2	डिब्बा 676.1
<b>बैथी धार से</b>	<b>बंबा</b>	<b>बक ध्यानी</b>	रत्न मंजूषा 676.5
तारलम्यपूर्वक 1049.22	उत्क्रोत 21.1	कपटपूर्ण सरल 818.6	सदूक 676.15
<b>बैथी लागत</b>	घाँपाकल 19.16	धर्म पाखंडी 825.4	<b>बकसा</b>
नियत लागत 644.9	ट्यूब वैल 19.15	<b>बकना</b>	सदूक 676.15
<b>बंधु</b>	पानी नल 19.27	गाली देना 433.6	<b>बकसुआ</b>
गोत्र जन 729.4	<b>बंबारी</b>	प्रलाप करना 428.13	घपरास बकसुआ 571.7
पति 803.5	बमबारी 905.28	बकवास करना 428.14	<b>बक्रा</b>
पुरुष मित्र 705.2	<b>बंबूकट</b>	<b>बकना झकना</b>	अवशिष्ट 954.17
भाई 723.4	रहड़ी 1071.41	थिङ्गथिङ्गाना 373.21	घटान फल 954.9
सम्मान कारण सूची 854.6	<b>बंबूकार्ट</b>	बकवास करना 428.14	<b>बक्राया</b>
स्वजन 725.1	रहड़ी 1071.41	<b>बकबक</b>	अनष्ट 533.18
<b>बंधुआ</b>	<b>बंस</b>	प्रलाप 428.6	अ-मृत 250.16
बंधुवा श्रमिक 643.19	बाँस 597.8	बकवास 428.7	अवशिष्ट 954.17
<b>बंधुआपन</b>	बाँसुरी 461.63	<b>बकबक करना</b>	अवशिष्टांशिय 939.17
बंधुवापन 643.18	वंश 727.1	बकवास करना 428.14	असमाप्त 943.11
<b>बंधुआ श्रमिक</b>	<b>बाँसुरी वाला</b>	<b>बकबकिया</b>	घटान फल 954.9
बंधुवा श्रमिक 643.19	बाँसुरी वादक 461.64	बकवासी 428.26	बचत 645.1
<b>बंधु जन</b>	<b>बंस लोचन</b>	<b>बकरम</b>	भुगतान अकृत 639.17
स्वजन 725.1	बाँस निर्यास 84.10	बुकरम 580.2	भुगतान शेष 639.2
<b>बंधुता</b>	<b>बाँसवारी</b>	<b>बकरा</b>	<b>बकार</b>
भातृत्व 723.3	वंशी वन 12.26	छाग मास 206.22	कथन 430.1
मित्रता 705.1	<b>बाँसी</b>	नर बकरी 127.23	<b>बकारना</b>
रिश्तेदारी 715.5	बाँसुरी 461.63	<b>बकरा घपका</b>	अपराध स्वीकार करना 876.23
स्वजन भावना 725.2	मत्स्य आखेट बाँसी 252.18	अजा धर्म 582.6	<b>बकारि</b>
<b>बंधुत्वपूर्ण</b>	दिष्णुपद मूर्ति 746.8	<b>बकरी</b>	भीम 771.76
स्वजन भावनापूर्ण 725.6	<b>बाँसी: डोरी</b>	बकरी 127.22 ⇨	<b>बकावली</b>
<b>बंधुत्वहीन</b>	मत्स्य आखेट: डोरी 252.19	<b>बकरीद</b>	गुल बकावली 14.11
परजन भावनापूर्ण 725.8	<b>बाँसी: तरंड</b>	ईदुल अफ़हा 57.45	<b>बक्रिया</b>
<b>बंधुदत्त</b>	बाँसी: तरंड 252.20 ⇨	<b>बक्रलम</b>	अवशिष्ट 954.17
कन्याधन 802.1	<b>बाँसीधर</b>	हस्तलिखितत: 412.51	असमाप्त 943.11
<b>बंधु बंधव</b>	कृष्ण 771.1	<b>बक्रलम खुद</b>	असमाप्त अंश 523.3
स्वजन 725.1	<b>बाँसी बजीया</b>	स्वहस्तलिखित 412.52	बचत 645.1
<b>बंधुल</b>	बाँसुरी वादक 461.64	<b>बक्रलमफ़्फ़ुद</b>	भुगतान अकृत 639.17
जारज 716.18	<b>बाँसी बट</b>	स्वहस्ताक्षरित 444.38	भुगतान शेष 639.2
वेश्या दलाल 807.9	वंशी बट 13.19	<b>बक्रलम खुद</b>	<b>बकी</b>
सुंदर 157.7	<b>बाँसी वाला</b>	हस्ताक्षर 444.8	पूतना 784.25
<b>बंधुया</b>	कृष्ण 771.1	<b>बकलस</b>	<b>बकुधना</b>
बंधुवा श्रमिक 643.19	<b>बाँहगी</b>	घपरास: बकसुआ 571.7	सिकुङ्गना 980.17
<b>बंधुवापन</b>	काँवर 1071.20	<b>बकला</b>	<b>बकुघा</b>
बंधुवापन 643.18 ⇨	<b>बाँहोली</b>	छिलका 116.6	गठरी 674.2
<b>बंधुवा श्रमिक</b>	आस्तीन 585.77	<b>बकवाद</b>	<b>बकुधी</b>
बंधुवा श्रमिक 643.19 ⇨	<b>ब-</b>	बकवास 428.7	गठरी 674.2
<b>बंधुहीन</b>	सहित: उपसर्ग सूची 1006.4	<b>बकवास</b>	<b>बकुल</b>
मित्रहीन 705.29	<b>बडराना</b>	गपराप 435.6	बगला 126.54
<b>बंधु</b>	पागल होना 354.21	<b>बकवास 428.7</b> ⇨	मोलसिरी 13.20
आबद्ध 1013.22	<b>बक</b>	<b>बकवास करना</b>	<b>बकैयी</b>
<b>बंधेज</b>	असुर सूची 783.8	प्रलाप करना 428.13	घुटरिया चाल 1083.5
आबद्ध 1013.22	आटि 126.13	<b>बकवास करना 428.14</b> ⇨	घुटरियों 1083.30
<b>बंधेज 578.5</b> ⇨	बगला 126.54	<b>बकवासपूर्ण</b>	<b>बकोट</b>
<b>बंधे बल्ल न होना</b>	<b>बकघर</b>	बकवासपूर्ण 428.25 ⇨	धिकोटी 918.15
अनियमित होना 71.7	धर्म पाखंडी 825.4	<b>बकवासी</b>	<b>बकोटना</b>
<b>बंधुलिस</b>	<b>बकझक</b>	प्रलापी 428.24	धिकोटी काटना 918.26
सार्वजनिक शौचालय 216.19	प्रलाप 428.6	<b>बकवासी 428.26</b> ⇨	<b>बकोटा</b>
	बकवास 428.7		धिकोटी 918.15

## बतकम

<b>बककम</b>	स्वतःकृततः 505.36	<b>बगल</b>	इसलामी मठ 745.9
<b>काष्ठ सूची 597.2</b>	<b>बखेका</b>	पार्श्व 997.1	<b>बागीची</b>
<b>बककल</b>	असुगिधा 519.3	<i>बगल 147.5 ⇨</i>	उपवन 12.11
घपरासः बकसुआ 571.7	उपद्रव 903.1	बगल गड्डा 147.6	<b>बगीची</b>
छाल 116.5	कलह 708.1	बगली 585.76	महल्ला 619.6
बककल परिधान 583.7	खटराग 747.4	<b>बगल (अँ)</b>	<b>बगुला</b>
<b>बककाल</b>	<b>बखेकिया</b>	बिगुल 461.65	बगला 126.54
अनाज विक्रेता 663.12	उपद्रवकारी 903.17	<b>बगल का</b>	<b>बगुला</b>
पंसारि 663.14	कलहप्रिय 708.13	पार्श्व भागीय 997.19	क्रांति विस्फोट 903.8
सक्की विक्रेता 663.16	तकरारी 708.14	<b>बगल गड्डा</b>	घक्रयात 85.10
<b>बककी</b>	<b>बखेरना</b>	<i>बगल गड्डा 147.6 ⇨</i>	बुलबुला 88.14
गाली देने वाला 433.9	बिखेरना 668.14	<b>बगलगीरी</b>	<b>बागीर</b>
प्रलापी 428.24	<b>बखेरल</b>	आलिंगन 237.8	अतिरिक्त 945.4
बकयासी 428.26	बिखेरने वाला 668.26	<b>बगल बगल</b>	बाहर बाहर 999.20
<b>बकखार</b>	<b>बखीर</b>	पार्श्वघरतः 696.28	रहित 1007.3
अनाज गोदाम 670.18	सुरक्षितता 908.29	<b>बगल में</b>	रहिततः 1007.4
घाराणी 280.5	<b>बखीरीयत</b>	निकट में 31.9	<b>बग्गी</b>
<b>बकस (अँ)</b>	सुरक्षिततः 908.29	<b>बगल में</b>	बग्गी 1071.39
संदूक 676.15	<b>बकुदा</b>	पार्श्वघरतः 696.28	<b>बग्गीघोषा</b>
<b>बकसाबंद</b>	भाग्य 260.14	<b>बगल बाला</b>	खाद्य फल सूची 190.2
क्रेटबंध 1014.10	<b>बकुतर</b>	पार्श्व भागीय 997.19	<b>बग्गी</b>
<b>बकसाबंदी</b>	कचघ 921.2	<b>बगला</b>	<i>बग्गी 1071.39 ⇨</i>
क्रेटबंदी 1014.5	<b>बकुतरपोश</b>	क्रांघ 126.23	<b>बग्गी चालक</b>
<b>बकुतरा</b>	कवचधारी 921.15	नीका सूची 1072.5	<i>बग्गी चालक 1079.8 ⇨</i>
उत्तराधिकार 623.1	<b>बकुतरबंध</b>	<i>बगला 126.54 ⇨</i>	<b>बग्गी बाला</b>
<b>बखरा</b>	कवचधारी 921.15	<b>बगलामुखी</b>	बग्गी चालक 1079.8
खंड 938.1	<b>बकुतरबंध गाकी</b>	बगला भगत	<b>बघनखा</b>
<b>बखरा</b>	कवचित यान 921.13	धर्म पाखंडी 825.4	टोना टोटका सूची 759.3
प्राप्य अंश 623.8	<b>बकुतावर</b>	<b>बगला भगती</b>	<i>बघनखा 922.9 ⇨</i>
<b>बखारी</b>	सीभाग्यशाली 260.33	कपटपूर्ण सरलता 818.2	<b>बघनही</b>
ऐश्वर्य भवन 602.12	<b>बकुतियार</b>	धर्म पाखंड 825.3	बघनखा 922.9
<b>बखारैत</b>	सीभाग्यशाली 260.33	<b>बगलामुखी</b>	<b>बघार</b>
उत्तराधिकारी 623.2	<b>बकुशाना</b>	दुर्गा 776.7	छाँक 195.17
<b>बखान</b>	कृपापूर्वक देना 638.8	<i>बगलामुखी 774.55 ⇨</i>	<b>बघारदार</b>
प्रशंसा 841.1	क्षमा करना 872.6	<b>बगाली</b>	छुंका [छुंकी] 195.63
प्रशंसा गायन 841.10	दान देना 641.19	दर्जी: धैली 673.15	<b>बघारना</b>
वर्णन 449.1	<b>बकुशावाना</b>	<i>बगाली 585.76 ⇨</i>	अभिमान प्रदर्शन करना 858.8
<b>बखानना</b>	दिलाना 638.7	<b>बगाली झोला</b>	छाँकना 196.48
कोसना 373.17	<b>बकुशाना</b>	बगाली धैला 673.5	अँग मारना 842.9
प्रशंसा करना 841.24	दिलाना 638.7	<b>बगाली धैला</b>	<b>बघेरा</b>
वर्णन करना 449.19	<b>बकुशी</b>	<i>बगाली धैला 673.5 ⇨</i>	लकड़बग्घा 127.78
<b>बखाना [बखानी]</b>	दानी 641.27	<b>बगाली दरता</b>	<b>बघकानापन</b>
वर्णित 449.24	<i>बकुशी 935.18 ⇨</i>	सेना पार्श्व 933.5	बालवता 230.22
<b>बखार</b>	येतन वितरक 643.25	<b>बगालवत</b>	<b>बघत</b>
अनाज गोदाम 670.18	<b>बकुशीरा</b>	असफल विद्रोह 903.4	<i>बघत 645.1 ⇨</i>
<b>बखार</b>	<i>बकुशीरा 640.8 ⇨</i>	राष्ट्र द्रोह 827.6	लाभ 646.2
खरा 15.4	<b>बकुशीरा (दे.)</b>	विद्रोह 903.3	<b>बघतः इ०</b>
<b>बखारी</b>	दान 641.1	सत्ता विरोध 902.7	बघतः चालीसवाँ भाग 645.2
अनाज गोदाम 670.18	<b>बग</b>	<b>बगालवती</b>	<b>बघत कर्ता</b>
<b>बखिया</b>	बगला 126.54	विद्रोही 903.18	<i>बघत कर्ता 645.8 ⇨</i>
<i>बखिया 572.12 ⇨</i>	<b>बगघुट</b>	<b>बगिया</b>	<b>बघत खाता</b>
<i>बखिया 577.8 ⇨</i>	शीघ्रतः 496.13	उपवन 12.11	<i>बघत खाता 631.8 ⇨</i>
<b>बखिया (दे.)</b>	<b>बगनेल</b>	पुष्प उपवन 12.12	<b>बघतः चालीसवाँ भाग</b>
बखिया 572.12	संग संग 696.26	महल्ला 619.6	<i>बघतः चालीसवाँ भाग 645.2 ⇨</i>
<b>बखीर</b>	समाकारता 978.1	<b>बगीचा</b>	<b>बघना</b>
रसियाव 202.6	<b>बगरी</b>	उपवन 12.11	अवशिष्ट होना 939.10
<b>बकुद</b>	चकवा 126.31	<b>बगीची</b>	आज्ञा नुक होना 348.5
स्वकृततः 505.35		आश्रम 745.2	कानचोरी करना 490.7

गुप्त होना 824.13  
 नाश न होना 533.8  
 प्रच्छन्न होना 824.18  
 संयम पालना 808.11  
**बच निकलना**  
 पुपचाप पलायन करना 916.11  
 त्राण पलायित होना 916.12  
**बचपन**  
 आरंभिक अवस्था सूची 994.23  
 जीवन: तीन अवस्था सूची 229.16  
 बाल अवस्था 230.21  
**बचपन का यार**  
 बाल मित्र 705.12  
**बचपन की यारी**  
 बाल मित्रता 705.11  
**बचपन की सहेली**  
 बाल सखी 705.13  
**बच रहना**  
 समाप्त न हो पाना 523.5  
**बचवा**  
 पुत्र 718.3  
**बचवैया**  
 प्रतिरक्षक 908.24  
**बचा [बची]**  
 अ-मृत 250.16  
 अवशिष्ट 954.17  
 अवशिष्टांशीय 939.17  
 असमाप्त 943.11  
 घटान फल 954.9  
 त्राण पलायित 916.21  
 निवारित 920.17  
 रक्षित 908.19  
 संकटमुक्त 910.9  
 संघित 645.9  
**बचाई**  
 निवारण 920.4  
**बचाऊ**  
 निवारक 920.18  
 बचत कर्ता 645.8  
**बचा कर रखना**  
 संघय करना 645.5  
 सुरक्षित रखना 908.17  
**बचा कर रखने वाला**  
 संघयी 645.10  
**बचा खुषा [बचा खुशी]**  
 अवशिष्टांशीय 939.17  
**बचा न रहना**  
 समाप्त होना 942.12  
**बचाना**  
 गोपन करना 824.14  
 निवारण करना 920.14  
 प्रहार बचाना 920.13  
**बचाना 645.4** ⇨  
 रक्षा करना 908.16  
 रोधित करना 920.15  
 शरण देना 910.8  
 संकट दूर करना 910.6

**बचाने वाला**  
 प्रतिरक्षक 908.24  
 संकट मोचक 910.10  
**बचा भाग**  
 शोचारा 954.10  
**बचाया [बचाई]**  
**बचाया [बचाई] 645.7** ⇨  
**बचा रह जाना**  
 नाश न होना 533.8  
**बचा रहना**  
 अवशिष्ट होना 939.10  
 न मरना 250.10  
 नाश न होना 533.8  
 समाप्त न होना 943.8  
**बचाव**  
 निवारण 920.4  
 प्रतिरक्षा 908.2  
 प्रतिरोध 915.1  
 प्रतिवाद 875.11  
 रक्षा 908.1  
 शरण 910.4  
 संकट मोचक युक्ति 910.2  
 संकट मोचन 910.1  
 स्पष्टीकरण 876.11  
**बचाव का शास्ता**  
 गुप्त मार्ग 1065.2  
**बचावनहार**  
 जीवन रक्षक 908.23  
**बचावनहारा**  
 जीवन रक्षक 908.23  
**बचाव पक्ष**  
 प्रतिवादी 875.12  
**बच्या**  
 नवजात शिशु 930.4  
 पुत्र 718.3  
 बालक 230.23  
**बच्या [बची]**  
 शिशु 230.3  
**बच्या गाड़ी**  
**बच्या गाड़ी 1071.26** ⇨  
**बच्यादानी**  
 गर्भाशय 152.14  
**बच्या दूका**  
 विपरीतता. उपमान सूची 310.13  
**बच्या लोग**  
 शिशु जन 230.2  
**बच्यी**  
 बालिका 230.24  
**बच्ये**  
 संतान 718.1  
 संतान समष्टि 718.2  
**बच्ये कच्चे**  
 शिशु जन 230.2  
 संतान समष्टि 718.2  
**बच्ये न जीना**  
**बच्ये हो कर मर जाना 240.8**  
**बच्ये न होना**  
**बच्ये न होना 240.7** ⇨

**बच्ये बीरान होना**  
 विधुर होना 804.25  
**बच्ये हो कर मर जाना**  
**बच्ये हो कर मर जाना 240.9** ⇨  
**बच्यों का कपरा**  
 शिशु कक्ष 614.22  
**बच्यों वाला**  
 संतानवान 239.9  
**बच्यों वाली**  
 संतानवती 239.10  
**बच्छल**  
 वात्सल्यपूर्ण 721.12  
**बच्छलता**  
 वात्सल्य 721.1  
**बछई**  
 गाय बछिया 230.15  
**बछड़ा**  
 गाय बछड़ा 230.14  
**बछड़ा [बछड़ी]**  
 पशु शिशु 230.11  
**बछल**  
 वात्सल्यपूर्ण 721.12  
**बछया**  
 गाय बछड़ा 230.14  
**बछिया**  
 गाय बछिया 230.15  
**बछुआ**  
 बालक 230.23  
**बछेका [बछेकी]**  
 घोड़ा शिशु 230.16  
 पशु शिशु 230.11  
**बछेक**  
 गाय बछड़ा 230.14  
**बछेकी**  
 वादक मडली 461.6  
**बजकना**  
 फेन बनना 88.18  
**बजट**  
**बजट 647.38** ⇨  
**बजट (अँ)**  
 बजट 647.38  
**बजन्म**  
 ख्याति होना 847.2  
 टकराना 1051.31  
 प्रतिध्वनि होना 294.16  
 मित्रता टूटना 705.24  
 शत्रुता होना 706.11  
 समय घोष होना .50.29  
**बजनिया**  
 वादक 461.2  
**बजबजाना**  
 फेन बनना 88.18  
**बजरंग**  
 दूककाय 160.12  
 बलिष्ठ पुरुष 160.4  
 हनुमान 781.19  
**बजरंग बली**  
 दूककाय 160.12

हनुमान 781.19  
**बजरंगी**  
 बलिष्ठ पुरुष 160.4  
**बजरबट्टू**  
 बाज़ीगर: गोटी 473.20  
 मटर दाना 977.8  
**बजर बट्टू**  
 मूर्च्छ व्यक्ति 302.2  
**बजरबट्टू**  
 सम्मोहित 367.6  
**बजरा**  
 नीका सूची 1072.3  
**बजरा 1072.21** ⇨  
 बड़ी नीका 1072.14  
**बजरारि**  
 द्वारा प्रेषित 1054.18  
**बजरारिया**  
 कृतता 505.33  
**बजरारिया**  
 खनिज रेत 100.2  
**बजरारिया**  
 द्वारा प्रेषित 1054.18  
 मार्ग से 1098.26  
**बजरी**  
 ओला 54.15  
 खनिज रेत 100.2  
 बजरा 1072.21  
**बजरी 938.44** ⇨  
**बजरी: सड़क**  
 कुटी सड़क 1063.42  
**बजा**  
 घड़ी समय 50.3  
 संगत 438.6  
 स्थानस्थित 1020.13  
**बजा [बजी]**  
 वादित 461.105  
**बजाज**  
 वस्त्र विक्रेता 576.21  
**बजाज**  
 वस्त्र विक्रेता 576.21  
**बजाज हट्ट**  
 वस्त्र बाज़ार 576.19  
**बजाज हट्टी**  
 वस्त्र दूकान 576.20  
**बजाज्जा**  
 वस्त्र बाज़ार 576.19  
**बजाज्जी**  
 वस्त्र व्यापार 576.18  
**बजाना**  
**बजाना 461.103** ⇨  
**बजाने वाला**  
 वादक 461.2  
**बजाया [बजाई]**  
 वादित 461.105  
**बजार**  
 बाज़ार 663.1  
**बजारी**  
 बाज़ारी 663.20

## बजारू

बजारा  
बाजारी 863 20  
बजावन  
वादन 461 1  
बजिद  
हठपूर्वक 349 15  
बजूका  
कृषि रक्षक पुतला 550 3  
बजे  
घड़ी समय 50 3  
बजेया  
वादक 461.2  
बज्जर  
बाजीगर: गोटी 473 20  
वप्रधी 302 9  
बझ  
इंद्र वज्र 928 8  
बझन  
ग्रस्त भूति 1013 3  
बझना  
ग्रस्त होना 1013 16  
बट  
अलबेट 975 10  
गोल पिंड 977 1  
बरगद 13 16  
बाट 962 27  
वलय 975 9  
बटइया  
रोड़ी 938 49  
बटई  
बटेर 126 55  
बटछरा  
पाषाण बाट 962 28  
बटन  
घुंडी 977 5  
द्विगर 1046 10  
धातु पिंड सूची 976.12  
बटन 571.15 ⇨  
वाद्य कुंजी 461 94  
स्विच 1046.12  
बटनहार  
बटाई कर्मी 567.10  
बटन होल (अँ)  
काज 571 14  
बटना  
उबटन 225.5  
बटना 567 15 ⇨  
बटने बाला  
बटाई कर्मी 567 10  
बटमार  
बटमार 864.34 ⇨  
विमान बटमार 864.35  
बटमारी  
बटमारी 864.33 ⇨  
बटमारी करना  
बटमारी करना 864.50 ⇨  
बटर (अँ)  
मक्खन 196 6

1304

बटर नाइफ (अँ)  
कटलरी सूची 681 14  
बटरफ्लाई स्ट्रोक  
बटरफ्लाई स्ट्रोक 483.6 ⇨  
बटरफ्लाई स्ट्रोक (अँ)  
बटरफ्लाई स्ट्रोक 483 6  
बटरफ्लाई (अँ)  
बो टाई 585 3  
बटरफ्लाई नट  
बटरफ्लाई नट 1016.26 ⇨  
बटरफ्लाई नट (अँ)  
बटरफ्लाई नट 1016 26  
बटसर (अँ)  
परोस कर्मी सूची 183.21  
बटली  
बटलाई 682 16  
बटलाई  
देगधी 682 11  
पतीला 682 13  
पाक भाड सूची 682 2  
बटलाई 682 16 ⇨  
बटवायक  
मार्ग पहरेदार 908 14  
बटवार  
मार्ग पहरेदार 908 14  
मार्ग रक्षक 1067 20  
बटवार।  
भाग कर्म 955 13  
बटहरी  
बटहरी 800.27 ⇨  
बटा  
गोल पिंड 977 1  
गोला 977 3  
मिन्न संख्या 949.16  
रोडा 938 48  
बटाई  
उत्तराधिकार विभाजन 623 6  
बटाई 567.9 ⇨  
बटाई कर्मी  
बटाई कर्मी 567.10 ⇨  
बटाटा  
आलू 189 7  
बटाणा  
मटर 189 31  
बटा रेशम  
बटा रेशम 568.14 ⇨  
बटालियन  
बटालियन 932 28 ⇨  
बटालियन (अँ)  
बटालियन 932 28  
बटिका  
गोटी 479.1  
टिकिया 977.13  
बटी 938.45  
बटिया  
पगडडी 1063.47  
बटी 938.45  
बतिया 116.2

बटी  
टिकिया 977 13  
पगडडी 1063 47  
बटी 938.45 ⇨  
बटी 176.25  
बटु  
ब्रह्मचारी 234.4  
बटुआ  
बटुआ 672.9 ⇨  
बटुआ उकाना  
जेब काटना 864.45  
बटुई  
पतीली 682.14  
बटुलौई 682.16  
बटुक  
बालक 230.23  
ब्रह्मचारी 234.4  
बटुक भैरव  
भैरव गण सूची 767 33  
बटुछ  
दामाद 724 22  
बटेर  
बटेर 126.55 ⇨  
बटैया  
बटाई कर्मी 567.10  
बटोर  
सग्रहण 669 1  
सवरण 667 5  
बटोरन  
उछ घान्य 548 27  
सवरण 667 5  
बटोरना  
अच्छा लाभ कमाना 646.12  
एकत्रित करना 667.7  
सग्रह करना 669.18  
संवरण करना 667.11  
सिकोरना 980 18  
बटोरने बाला  
सवरण कर्ता 667.19  
बटोरा [बटोरी]  
संवरित 667.18  
बटोरक  
संवरण कर्ता 667.19  
बटोरी  
यात्री 1087 2  
बट्ट  
गोल पिंड 977 1  
गोला 977.3  
बट्टा  
अल्पता 942.1  
कटीती 664.17  
गोल बाट 977 16  
दलाल शुल्क 659.5  
पाषाण. बाट 962.28  
बटी 938.45  
बाजीगर: गोटी 473.20  
बाट 962.27  
सिल बट्टा 580.19

हानि 646.7  
बट्टा खाता  
बट्टा खाता 639 4  
बट्टा डाल  
समतल 986 9  
बट्टी  
गोटी 479.1  
टिकिया 977.13  
पंसिल 416.8  
बटी 938 45  
बट्टी (बोलचाल)  
मित्रता स्थापना 705.15  
बट्टू  
गोला 977.3  
बाजीगर: गोटी 473.20  
बट्टे खाते डालना  
अपलिखित करना 639 12  
बट्टे खाते लिखा  
अपलिखित 639.19  
बट्टेबाज  
छली 827 24  
बाजीगर 473 18  
बट्टा खाता  
बट्टा खाता 639 4 ⇨  
बडंगा  
बँकेर 611.24  
बड  
बरगद 13 16  
बड-  
बृहत 979.15  
बडका  
बडा भाई 723 9  
बडका [बडकी]  
अग्रज [अग्रजा] 723 8  
बडकुल्ला  
गोदा 190.17  
बडगोबा  
गोदा 190 17  
बडबंत  
उदंत 144.5  
बडबंता [बडबंती]  
उदंती (जंतु) 144.19  
बडना  
प्रवेश करना 1094.17  
बडप्यन  
गौरव 849.4  
महरच 852.1  
महानता 839.1  
बडप्यन जताना  
शेड़ी मारना 842.10  
बडबड  
बडबडाहट 428.8  
बडबड करना  
बडबकाना 428.15  
बडबकाना  
बडबकाना 428.15 ⇨  
बडबडाहट  
बडबडाहट 428.8 ⇨



बड़बोला [बड़बोली]  
 गर्वीकि कर्ता 842.13  
 डींगबाज़ 842.15  
 बड़भागी [बड़भागिन]  
 सीभाग्यशाली 280.33  
 बड़वा  
 बड़वा दीप्ति 287.18  
 मादा घोका 127.36  
 सज़ा 774.94  
 बड़वा बीप्ति  
 बड़वा दीप्ति 287.18 ⇨  
 बड़वानल  
 बड़वा दीप्ति 287.18  
 बड़वामुख  
 शिय 767.1  
 बड़वा सुत  
 अम्बिनी कुमार 773.3  
 बड़हल  
 बड़हल 190.26 ⇨  
 बड़ा  
 बड़ा 200.21 ⇨  
 बड़ा [बड़ी]  
 अग्रज [अग्रजा] 723.8  
 अत्यधिक 944.7  
 अधिक 944.5  
 अधिकांशीय 939.14  
 आकार से बड़ा 961.18  
 उच्च 982.7  
 उत्तम 313.13  
 ज्येष्ठ 229.25  
 दीर्घ मात्रा युक्त 410.23  
 प्रतिष्ठित 849.15  
 प्रधान 852.10  
 प्रसारित 979.17  
 बृहत् 979.15  
 महत्त्वपूर्ण 852.8  
 महाकाय 154.22  
 महान 839.8  
 लंबाई युक्त 965.10  
 ययस्क 229.21  
 यथित 979.20  
 विकसित 534.14  
 विशेषाधिकारी 897.17  
 विस्तीर्ण 981.10  
 बड़ा आदमी: पुत्र  
 बड़ा आदमी: पुत्र 718.9 ⇨  
 बड़ाई  
 उत्तमता 313.1  
 ख्याति 847.1  
 प्रधानता 852.3  
 प्रशंसा 841.1  
 महत्त्व 852.1  
 महानता 839.1  
 बड़ा उत्तरीय  
 घादर 585.10  
 बड़ा कक्ष  
 बड़ा कमरा 614.2

बड़ा कमरा  
 झुङ्गाई रुम 614.16  
 बड़ा कमरा 614.2 ⇨  
 बड़ा करना  
 परिधित करना 979.13  
 पालन पोषण करना 720.17  
 बृहत् करना 979.9  
 बड़ा काम  
 महान कार्य 508.6  
 बड़ा किस्मान  
 बड़ा ज़मींदार 553.15  
 बड़ा खेत  
 फार्म 551.2  
 बड़ा ख्याल  
 राग गायन शैली सूची 460.39  
 बड़ा गीत  
 बड़ा गीत 620.5 ⇨  
 बड़ा गिरजाघर  
 कैथीड्रल 745.21  
 बड़ा प्राप्त  
 बड़ा प्राप्त 181.28 ⇨  
 बड़ा घट  
 बड़ा घड़ा 679.3  
 बड़ा घड़ा  
 बड़ा घड़ा 679.3 ⇨  
 बड़ा घराना  
 उच्च कुल 728.2  
 बड़ा चम्पच  
 बड़ा चम्पच 681.18 ⇨  
 बड़ा चित्र: खींचे में छोटा चित्र  
 मध्यक 1002.9  
 बड़ा छिद्र  
 बड़ा छिद्र 271.10 ⇨  
 बड़ा छोटा  
 छपक 668.4  
 बड़ा छोटा [बड़ी छोटी]  
 कुलीन अकुलीन 728.14  
 बड़ा ज़मींदार  
 बड़ा ज़मींदार 553.15 ⇨  
 बड़ा जानवर  
 गाय भैंस 127.9  
 बड़ा टोकरा  
 बड़ा टोकरा 677.3 ⇨  
 बड़ा डैक  
 अगला डैक 1073.28  
 बड़ा डोल  
 बड़ा डोल 461.45 ⇨  
 बड़ा तराजू  
 बड़ा तराजू 962.10 ⇨  
 बड़ा बरतार  
 केन्द्रीय सचिवालय 654.13  
 बड़ा बिन  
 क्रिसमस 57:57  
 बड़ा देवता  
 प्रधान देवता 772.21  
 बड़ापन  
 अग्रजता 723.7  
 उच्चता 982.1

बृहत्ता 979.1  
 महानता 839.1  
 बड़ापन छोटापन  
 कुलीनता अकुलीनता 728.1  
 बड़ा परिवार  
 सयुक्त परिवार 726.6  
 बड़ा पुत्र  
 बड़ा पुत्र 718.8 ⇨  
 बड़ा बाबू  
 हेड क्लर्क 652.37  
 बड़ा बोल  
 गर्वाक्ति 842.2  
 बड़ा बोल बोलना  
 गर्वाक्ति करना 842.7  
 बड़ा भाई  
 बड़ा भाई 723.9 ⇨  
 बड़ा भिगीना  
 बड़ा भिगीना 682.18 ⇨  
 बड़ा मंडप  
 बड़ा मंडप 600.14 ⇨  
 बड़ा मंदिर  
 बड़ा मंदिर 745.32 ⇨  
 बड़ा मालम  
 उप पोताध्यक्ष 1080.17  
 बड़ा मुँह: घड़ा  
 बड़ा मुँह: घड़ा 679.4 ⇨  
 बड़ा वन  
 गहन वन 12.7  
 बड़ा वृक्ष  
 बड़ा वृक्ष 111.21 ⇨  
 बड़ा साइज़  
 बड़ा साइज़ 961.13 ⇨  
 बड़ा साधु संन्यासी  
 महात्मा 790.7  
 बड़ा स्टेशन  
 रेलवे जंक्शन 1069.4  
 बड़ा हथौड़ा  
 बड़ा हथौड़ा 559.40 ⇨  
 बड़ा होना  
 बृहत् होना 979.8  
 बड़ी  
 बड़ी 192.14 ⇨  
 बड़ी औत  
 बृहदांत्र 152.5  
 बड़ी इलायची  
 बड़ी इलायची 281.10 ⇨  
 बड़ी उमर  
 दीर्घ आयु 229.6  
 बड़ी कील  
 बड़ी कील 1016.10 ⇨  
 बड़ी कौड़ी  
 कौड़ी: अंटा 479.27  
 बड़ी गठरी  
 बड़ी गठरी 674.5 ⇨  
 बड़ी चींटी  
 चींटा 122.21  
 बड़ी जाति  
 नृवंश 730.15

बड़ी झाड़ू  
 बड़ी झाड़ू 218.18 ⇨  
 बड़ी दूर  
 सुदूरस्थ 32.8  
 बड़ी दूरी  
 सुदूरता 32.2  
 बड़ी नदी  
 बड़ी नदी 20.5 ⇨  
 बड़ी नौका  
 बड़ी नौका 1072.14 ⇨  
 बड़ी पिप्पली  
 गज पिप्पली 281.14  
 बड़ी पुस्तक  
 बड़ी पुस्तक 446.5 ⇨  
 बड़ी बहन  
 बड़ी बहन 723.10 ⇨  
 बड़ी बात  
 कठिन कार्य 519.2  
 महान कार्य 508.6  
 बड़ी बुहारी  
 बड़ी झाड़ू 218.18  
 बड़ी बूँद  
 बड़ी बूँद 88.13 ⇨  
 बड़ी भेली  
 बड़ी भेली 977.15 ⇨  
 बड़ी माता  
 धेयक 163.9  
 बड़ी मात्रा  
 गुरु मात्रा 452.40  
 दीर्घ मात्रा 410.15  
 विशाल संख्या 949.5  
 बड़ी रक्तावी  
 बड़ी रक्तावी 685.6  
 बड़ी रकाबी  
 बड़ी रकाबी 685.6 ⇨  
 बड़ी राशि  
 विशाल संख्या 949.5  
 बड़ी लहर  
 ऊँची लहर 1040.19  
 बड़ी लाइन  
 मेन लाइन 1066.17  
 बड़ी संख्या  
 विशाल संख्या 949.5  
 बड़ी सड़क  
 राजमार्ग 1063.39  
 बड़ी साली  
 बड़ी साली 724.41 ⇨  
 बड़ी हाज़ारी (इंस्ट्रुइबिया कंपनी)  
 मुख्य आहार 199.5  
 बड़े दिल वाला  
 दानवीर 641.28  
 विशालहृदय 817.11  
 बड़े पुरखे  
 गुरुजन समष्टि 722.1  
 बड़े बुजुर्ग  
 गुरुजन समष्टि 722.1  
 बड़े बूढ़े  
 अतीत जन 63.4

## बड़े बूढ़े [बड़ी बूढ़ी]

गुरुजन समष्टि 722.1  
पूर्वज समष्टि 727.21  
वृद्ध जन 232.3  
**बड़े बूढ़े [बकी बूढ़ी]**  
दादा परदादा [दादी परदादी] 722.4  
**बड़ेरा [बड़ेरी]**  
बृहत 979.15  
**बड़े लोग**  
कुलीन जन 728.5  
गुरुजन समष्टि 722.1  
धनाढ्य जन 626.4  
विशिष्ट जन 728.13  
**बड़े सयाने**  
गुरुजन समष्टि 722.1  
**बड़ंत**  
उत्थान 1030.1  
प्रगति 1095.1  
प्रोद्गतता 988.2  
वृद्धि 979.4  
**बड़ आना**  
प्रोद्गत होना 988.7  
**बड़ई**  
ईसा 791.8  
काष्ठ कर्मी 597.24  
**बड़ईगीरी**  
काष्ठ कर्म 597.23  
**बड़ कर**  
अधिक 944.5  
अधिकत 944.11  
उत्तमतर 313.12  
स्वागतपूर्वक 1059.28  
**बड़ कर स्वागत करना**  
अभ्युद्गत होना 1059.24  
**बड़त**  
उत्थान 1030.1  
प्रगति 1095.1  
प्रोद्गतता 988.2  
वृद्धि 979.4  
वेग वृद्धि 1043.5  
**बड़ता [बड़ती]**  
आरोह क्रमिक 991.22  
उत्थानशील 1030.21  
उन्नतिशील 534.11  
ऊर्ध्वगामी 1030.24  
प्रगति कर्ता 1095.14  
वृद्धिशील 979.21  
**बड़ता क्रम**  
आरोह क्रम 991.3  
**बड़ती**  
उत्थान 1030.1  
उन्नति 534.1  
पदोन्नति 653.12  
प्रगति 1095.1  
वृद्धि 979.4  
**बड़ते**  
आरोहत 991.29  
**बड़ते बड़ते**  
विकास क्रम से 991.33

**बड़न**  
उत्थान 1030.1  
प्रगति 1095.1  
विकास 534.4  
शास्त्रन 117.6  
**बड़नशील**  
वृद्धिशील 979.21  
**बड़ना**  
अभ्युद्गत होना 1059.24  
उन्नत होना 534.8  
उबजना 117.11  
प्रगति करना 1095.7  
प्रसारित होना 979.10  
प्रोद्गत होना 988.7  
फूलना 988.8  
बृहद होना 979.8  
महँगाई होना 664.24  
वर्धित होना 979.12  
विकसित होना 534.9  
विस्तीर्ण होना 981.8  
वेग बड़ना 1043.10  
शाखा निकलना 117.14  
संक्रमण करना 1091.7  
समृद्ध होना 626.10  
सीमातिक्रमण करना 1001.32  
**बड़नी**  
अग्रिम देय 634.7  
झाड़ू 218.17  
बयाना 658.9  
**बड़ने वाला**  
वृद्धिशील 979.21  
**बड़घी**  
प्रोद्गत 988.10  
**बड़घी आच्छादन**  
छज्जा 611.27  
**बड़घी किनारा**  
टोप टोपी बाड़ 584.22  
**बड़घी छत**  
बड़घी छत 611.19 ⇨  
**बड़घी छप्पर**  
छप्पर: किनारा 615.2  
**बड़घी धक्का**  
जेटी 1069.13  
**बड़ा [बड़ी]**  
अधिक 944.5  
आलोक वर्धित 285.47  
किण्वित 195.59  
प्रगत 1095.13  
प्रोद्गत 988.10  
बृहत 979.15  
महँगा [महँगी] 664.34  
वर्धित 979.20  
विकसित 534.14  
**बड़ाऊ**  
वर्धक 979.22  
**बड़ा चका [बड़ी चकी]**  
उन्नत 534.10

**बड़ा चका कर**  
विवरणपूर्वक 449.32  
**बड़ाना**  
अवतारण करना 1080.36  
आगे करना 994.13  
आगे करना 1095.8  
आघात वर्धित करना 545.23  
उत्प्रेरित करना 499.5  
किण्वित करना 195.44  
घलाना 1046.16  
दीप बुझाना 286.12  
परिवर्धित करना 979.13  
प्रधार करना 442.17  
बृहद करना 979.9  
भावोदीपन करना 358.19  
विस्तार करना 981.7  
वेग बड़ाना 1043.11  
सिकोड़ना 980.18  
हाँकना 1079.19  
**बड़ाना चकाना**  
विस्तार करना 981.7  
**बड़ाने वाला**  
अग्रसारक 1095.16  
वर्धक 979.22  
सवर्धक 979.26  
**बड़ाबड़ी**  
प्रतियोगिता 707.2  
**बड़ाया [बड़ाई]**  
आघात वर्धित 545.29  
परिवर्धित 979.24  
सवर्धित 979.25  
**बड़ाव**  
उँडलाव 1032.4  
ज्वार 1040.26  
प्रगति 1095.1  
प्रसार 979.3  
प्रोद्गतता 988.2  
वृद्धि 979.4  
**बड़ाया**  
उत्प्रेरण 499.2  
वेग वर्धन 1043.6  
शाबाशी 841.21  
**बड़िया**  
उत्तम 313.11  
उत्तम 313.13  
कलापूर्ण 402.3  
**बड़िया**  
खरा [खरी] 98.12  
**बड़िया**  
गुणवत्तायुक्त 957.10  
प्रशंसनीय 841.30  
रोचक 400.12  
स्वादिष्ट 275.20  
**बड़िया खाना**  
स्वादिष्ट आहार 197.11  
**बड़ियापन**  
उत्तमता 313.1

**बड़ैया**  
अग्रसारक 1095.18  
संवर्धक 979.26  
**बड़ोतरी**  
उन्नति 534.1  
पदोन्नति 653.12  
प्रगति 1095.1  
वृद्धि 979.4  
**बड़िगक**  
विक्रेता 661.2  
व्यापारी 657.2  
**बड़ंगड़**  
बड़ंगड़ 434.5 ⇨  
**बत-**  
उक्ति 434.1  
**बत**  
बतख 126.56  
बतकही  
वार्तालाप 435.1  
बतख  
बतख 126.56 ⇨  
बतबड़ाव  
तकरार 708.7  
बतरस  
बतरस 435.8 ⇨  
बतरसिया  
बतरसिया 435.29 ⇨  
बतराना  
वार्तालाप करना 435.16  
बतरही [बतरही]  
बतरसिया 435.29  
बतर्ज  
बतर्ज 458.61 ⇨  
बतलाना  
अपराध स्वीकार करना 876.23  
ज्ञान कराना 305.24  
परिभाषा करना 317.12  
रहस्य खोलना 822.16  
व्याख्या करना 427.22  
संज्ञापित करना 441.13  
बताना  
अभिव्यक्त करना 428.9  
उत्तर देना 334.8  
ज्ञान कराना 305.24  
परामर्श देना 332.10  
पिटवाई करना 918.23  
मार्ग दिखाना 1098.15  
वर्णन करना 449.19  
शिक्षण करना 321.32  
संज्ञापित करना 441.13  
**बताम**  
छोटी नीका 1072.13  
नीका सूची 1072.3  
**बताया [बताई]**  
अभिव्यक्त 428.17  
कथित 430.16  
**बतारा**  
गोलगप्पा 200.12

बताशा 280.17 ⇐  
 बताशा कील 1016.11  
 बताशा कील 1016.11 ⇐  
 बतास  
 बतरस 435.8  
 संज्ञापनेच्छा 441.8  
 बतास फेनी  
 फेनी 200.28  
 बतासा  
 बताशा 280 17  
 बुलबुला 88.14  
 बतिया  
 खरबूजा 190.15  
 फल 116 1  
 बतिया 116.2 ⇐  
 बतियाना  
 वार्तालाप करना 435 16  
 बतियार  
 वार्तालाप 435.1  
 बतीस  
 बतीस 948 60  
 बतीसा  
 बतीसा 203 26 ⇐  
 बतीसी  
 दंतावली 144 9  
 बतीसी दिखाना  
 गिड़गिड़ाना 350.13  
 हँसना 384 7  
 बतीसी बजना  
 ठिठुरना 105.18  
 बतू  
 कलाबतू 569 14  
 बतौला  
 घकमा 819 9  
 बतौर  
 अनुसार 514.26  
 उदाहरणतः 309 25  
 कृततः 505 33  
 मार्ग से 1098.26  
 विधिपूर्वक 514.19  
 स्थानापन्नतः 653.40  
 बतौर नमूना  
 उदाहरणतः 309.25  
 बतौर समूह  
 प्रमाणतः 327.16  
 बतीरी  
 अर्बुद 186.1  
 बतारु  
 जलपक्षी सूची 126.7  
 बतख 126.56  
 बती  
 टेप 571.20  
 दीपक बाती 285.17  
 पैसिल 416.8  
 प्रकाश उपकरण 285.6  
 बती 568.8 ⇐  
 बारुदः पत्तीता 927.21

सलेट पैसिल 416.9  
 बतीस  
 बतीस 948.60 ⇐  
 बतीस उपमान सूची  
 बतीस उपमान सूची 948.61 ⇐  
 बतीसा  
 बतीसा 203.26  
 बतीसी  
 दंतावली 144 9  
 बतू  
 कलाबतू 569.14  
 बधरी  
 सड़कें कर्ब 1064 2  
 बधान  
 खेत भवन 602.15  
 गोशाला 603.24  
 बधुआ  
 बधुआ 189.28 ⇐  
 साग सक्ती सूची 189.4  
 बध  
 अकल्याणकारी 711.9  
 दुरघरित्र 811 5  
 दुष्कर्मी 812.15  
 बध-  
 बुरा उपसर्ग सूची 314 11  
 बधअमन  
 उपद्रवग्रस्त 903.16  
 बधअमनी  
 अव्यवस्थितता 894 5  
 उपद्रवग्रस्तता 903 2  
 शासनहीनता 894 1  
 बधअमली  
 अव्यवस्थितता 894 5  
 कुशासन 894 3  
 बधईतजानी  
 अव्यवस्थितता 894 5  
 बधईतिजानी  
 कुप्रबंध 655 8  
 बध कर  
 दौब लगा कर 481.26  
 बधकार  
 दुरघरित्र 811.5  
 दुष्कर्मी 812.15  
 व्यामिधारी 806 10  
 बधकारी  
 दुरघरित्रता 811 1  
 दुष्कर्मी 812.6  
 बधक्लिस्मत  
 दुर्भाग्यशाली 260.34  
 बधक्लिस्मती  
 दुर्भाग्य 280.18  
 बधझू  
 कुस्वभावी 838.8  
 बधकुवाह  
 अकल्याण कामी 711 1  
 बधकुवाही  
 अकल्याण कामना 711.3

बदगुमान  
 सदेहशील 341.10  
 बदगुमानी  
 शलत फहमी 341 4  
 सदेह 341.3  
 बदगो  
 निदक 843 22  
 बदगोई  
 निदन 843 2  
 बदघलन  
 दुरघरित्र 811 5  
 व्यमिधारी 806 10  
 बदघलनी  
 दुरघरित्रता 811 1  
 बदघरम  
 नज़र लगाने वाला 711 13  
 बदज़मान  
 अपभाषी 433 8  
 घृष्टभाषी 432 14  
 शाप दाता 713 10  
 बदज़मानी  
 अपभाषण 433 1  
 गाली गलौज 433 4  
 घृष्ट भाषण 432 6  
 बदज़ात  
 अकुलीन 728 16  
 अघम 840 4  
 बदज़ायक़ा  
 कुस्वादिष्ट 275 22  
 बदजीक़  
 कुडील 155 5  
 बदतमीज़  
 असम्य 734 14  
 घृष्ट 734 20  
 बदतमीज़ी  
 धृष्टता 734 8  
 बदतर  
 निकृष्टतर 314 6  
 बदतरता  
 निकृष्टतरता 314 2  
 बदतरी  
 निकृष्टतरता 314.2  
 बदतरीन  
 निकृष्ट 314.5  
 बदतहज़ीबी  
 असम्यता 734.1  
 घृष्टता 734.8  
 घृष्टता 734.8  
 बदबयानत  
 बेईमान 816.5  
 बदबयानती  
 बेईमानी 816.2  
 बददिमाा  
 दर्पी 858 13  
 बददिभागी  
 दपिता 858.6  
 श्रेष्ठ ग्रंथि 352 7

बदबुआ  
 अकल्याण कामना 711.3  
 बदबुआ देना  
 अकल्याण कामना करना 711.7  
 बदन  
 आकार रूप 967.5  
 क्रुद क्रामत 154.1  
 शरीर 139 1  
 स्तन 146.6  
 बदनज़र  
 नज़र लगाने वाला 711 13  
 बदनसीब  
 दुर्भाग्यशाली 260 34  
 बदनसीबी  
 दुर्भाग्य 260 18  
 बदनस्स  
 अकुलीन 728 16  
 कम नस्ल का 243.19  
 बदना  
 चुनौती देना 917.4  
 दौब पर लगाना 481.24  
 निर्धारित करना 328 9  
 शर्त लगाना 339 25  
 बदनाम  
 अलोकप्रिय 850 8  
 कुख्यात 848 4  
 बदनाम करना  
 निंदा करना 843 14  
 बदनामी  
 अलोकप्रियता 850 3  
 कुख्याति 848.1  
 निंदा 843 1  
 लांछन 843 7  
 बदनामी का धब्बा  
 लांछन तिलक 843.8  
 बदनिगाह  
 नज़र लगाने वाला 711.13  
 बदनीयत  
 दुराशय 818 9  
 दुर्जन 818.5  
 बेईमान 816 5  
 बदनीयती  
 दुराशयता 818 4  
 दुर्जनता 818 1  
 बेईमानी 816.2  
 बदनुमा  
 कुडील 155.5  
 कुरूप 156 4  
 बदनुमाई  
 कुडीलता 155 3  
 कुरूपता 156.2  
 बदपरहेज़  
 असंयमी 809.9  
 बदपरहेज़ी  
 अत्याहार 182.4  
 असंयम 809 3  
 कुपध्याहार 182 8

## बदपरहेज़ी करना

**बदपरहेज़ी करना**  
अत्याहार करना 182 11

**बदकेली**  
दुरधरित्रता 811 1  
दुष्कर्म 812 6

**बदबपून**  
दुर्भाग्यशाली 260 34

**बदबद्धी**  
दुर्भाग्य 260 18

**बद बद कर**  
दौब लगा कर 481 26  
प्रतियोगितापूर्वक 707.16

**बदबू**  
दुर्गंध 273 5

**बदबूदार**  
दुर्गंधपूर्ण 273 16  
सखा [सखी] 197.48

**बदमज़गी**  
वैमनस्य 708 10

**बदमज़ा**  
अरोचक 401 10  
कुस्यादिष्ठ 275.22

**बदमस्त**  
मदोन्मत्त 211 15

**बदमस्ती**  
मद 211 1

**बदमाशा**  
अधम 840 4  
कुटिल 818 7  
गुडा 811 7  
दुर्जन 818 5  
व्यभिचारी 806 10

**बदमाशी**  
कुटिलता 818 3  
गुडई 811 2  
दुर्जनता 818 1  
नटखट कृत्य 860.11

**बदमिज़ाज**  
कुस्यभावी 838.8  
तीक्ष्ण स्वभावी 838 9  
दर्पी 858 13

**बदमिज़ाजी**  
कुस्यभाव 838.1  
तीक्ष्ण स्वभाव 838 2

**बदरंग**  
असुंदर रंग वाला 289 32  
विवर्ण 291 18

**बदरंग होना**  
विवर्ण होना 291 10

**बदरंगी**  
विवर्णता 289 23

**बदर**  
कपास 568 4  
क्षेत्र निर्वासित 870 26  
बेर 190 28

**बदरपुर**  
खनिज रेत 100 2

**बदरा**  
मेघ 55 1

**बदराह**  
दुर्जन 818 5

**बदरिका**  
बेर 190 28  
बेरी 190 29

**बदरिया**  
मेघ 55.1

**बदरी**  
कपास 568 4  
बेर 190.28  
मेघ 55 1

**बदरी नाथ**  
विष्णु मूर्ति सूची 746 7

**बदरी फल**  
बेर 190.28

**बदरीघासा**  
दुर्गा 776 7

**बदरी शैल**  
भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1

**बदल**  
स्थानापन्नता 653 20

**बदलगाभ**  
धृष्ट 734 20  
मुंहज़ोर 708 15

**बदल जाना**  
परिवर्तन होना 532 13

**बदलते बदलते**  
कालांतर मे 60.16

**बदल देना**  
परिवर्तन करना 532 14

**बदलना**  
उपांतरण करना 338 23  
क्रांति करना 903.15  
नदीकरण करना 532 15  
परिवर्तन करना 532.14  
परिवर्तन होना 532.13  
मुकरना 338 25  
वचन तोड़ना 338 30  
वापस देना 638 11  
विनिमय करना 636.6  
स्थान परिवर्तन करना 1036.9  
स्थानांतरित होना 653 28

**बदला**  
कति पूर्ति 834 18  
प्रतिकर्म 504.3  
प्रतिदान 641 7  
प्रतिप्रहार 918 4  
प्रतिफल 510 3  
प्रतिशोध 873 2  
विनिमय 636.3

**बदला [बदली]**  
नवीकृत 64 13  
परिवर्तित 532 16  
विनिमीत 636 7  
स्थानांतरित 653.37

**बदला चुकाना**  
प्रतिशोध लेना 873 8

**बदलाना**  
मेघाच्छन्न होना 55 13

**बदलाया [बदलाई]**  
मेघाच्छन्न 55 14

**बदलायापन**  
मेघाच्छन्नता 55 7

**बदला लेना**  
प्रतिशोध लेना 873 8

**बदलाव**  
परिवर्तन 532.1

**बदलाव आना**  
परिवर्तन होना 532.13

**बदलाव न आना**  
परिवर्तन न होना 533 7

**बदली**  
परिवर्तन 532 1  
मेघ 55 1  
विनिमय 636 3  
स्थानांतरण 653.19

**बदली होना**  
स्थानांतरित होना 653.28

**बदले की आग**  
प्रतिशोध भावना 873.3

**बदले में**  
स्थानापन्नता 653 40

**बदले में लेना देना**  
विनिमय करना 636.6

**बदलीबल**  
विनिमय 636 3

**बदशाऊरी**  
कुवेरिता 589 5

**बदशास्त्र**  
कुरूप 156 4

**बदसगुन**  
अशुभ शकुन 262 3

**बदसलीक्रा**  
असभ्य 734 14

**बदसलुक**  
दुर्य्यवहारी 831 10

**बदसलुकी**  
दुर्य्यवहार 831 1

**बदसूरत**  
कुरूप 156 4

**बदसूरती**  
कुरूपता 156.2

**बदस्त**  
हस्त द्वारा प्रेषित 1054 24

**बदस्तूर**  
पारंपरिकतः 795 17  
प्रथानुसारतः 795.18  
यथापूर्वतः 533.17  
विधित 878.32  
विधिपूर्वक 514.19

**बदहज़मी**  
अजीर्ण 163.26

**बदहवास**  
उद्धिग्न 377.13

**बदहवासी**  
उद्धिग्नता 377 4  
हरबडी 496.5

**बदहाल**  
उत्पीकृत 391.28  
उद्धिग्न 377 13  
दुर्दशाग्रस्त 827.22  
शोकग्रस्त 383.8  
संकटग्रस्त 909.19

**बदहोश**  
मदोन्मत्त 211 15

**बदा**  
दौब वस्तु 481.18  
प्रारब्ध 260 1

**बदा [बदी]**  
दौब पर लगा 481 25  
निर्धारित 328.14  
शर्त पर लगा 339.34

**बदाबदी**  
दौब लगा कर 481.26  
प्रतियोगिता 707 2  
प्रतियोगितापूर्वक 707.16

**बदी**  
अकल्याण 711 1  
अपकार 831.4  
अहित 712.2  
कृष्ण पक्ष 45.2  
दौब वस्तु 481.18  
प्रारब्ध 260.1  
शर्त 339.11

**बदीलत**  
कारणतः 507.7  
सहायता से 700 28  
हस्त द्वारा प्रेषित 1054 24

**बद्ध**  
अनुबंधित 339.32  
आबद्ध 1013 22  
जादुकृत 474.37  
जुता [जुती] 1079.21  
टैका [टैकी] 577 30  
नियमित 71.10  
पैकड 1014.7  
बदीकृत 868.34  
मुकुलित 120.8  
वचनबद्ध 339 39  
संग्रहित 573 15  
संबंधित 715 12  
संयुक्त 1010.22  
सटा [सटी] 31.8  
सहित 1006.2

**बद्धकक्ष**  
सन्नद्ध 491.16

**बद्धकोष्ठता**  
कोष्ठबद्धता 183.30

**बद्धचित्त**  
समाधिस्थ 755.9

**बद्ध जिह्व**  
मीन ब्रती 429.24  
**बद्धता**  
गति रुद्धता 1047.3  
**बद्धवृत्ति**  
नज़रबंदीकृत 474.40  
**बद्धध्यान**  
ध्यानमग्न 331.11  
समाधिस्थ 755.9  
**बद्धनेत्र**  
लक्ष्य साधक 931.20  
**बद्धप्रतिज्ञा**  
अविचल 500.15  
वधनबद्ध 339.39  
**बद्धमुष्टि**  
अति कृपण 639.27  
**बद्धमूल**  
आमूलित 117.21  
**बद्धमीन**  
मीन ब्रती 429.24  
**बद्धयाक**  
मीन ब्रती 429.24  
**बद्धायुध**  
शस्त्रधारी 930.6  
**बद्धी**  
अडाकर्षित पशु 238.10  
आबद्धन उपकरण 1013.7  
घमझा पेट्टी 571.2  
घल पट्टा 1076.26  
रस्सी 570.5  
**बध**  
मारण 251.1  
मृत्यु दंड 871.1  
वध 251.3  
हत्या 251.5  
**बधप्र**  
घातक शस्त्र 922.3  
**बधाई**  
बधाई 841.22 ⇨  
बधाई गीत 796.17  
मंगल उपहार 796.2  
मंगल बधाई 841.23  
**बधाई गीत**  
बधाई गीत 796.17 ⇨  
**बधाया**  
बधाई 841.22  
बधाई गीत 796.17  
मंगल बधाई 841.23  
**बधावना**  
बधाई गीत 796.17  
मंगल बधाई 841.23  
**बधावरा**  
मंगल बधाई 841.23  
**बधावा**  
बधाई गीत 796.17  
**बधिक**  
रुसाई 206.43

**बधिया**  
अडाकर्षित पशु 238.10  
**बधियाना**  
अंडाकर्षण करना 238.11  
**बधिया सौंड**  
बैल 127.13  
**बधिर**  
बहरा [बहरी] 164.7  
**बधिरता**  
बहरापन 164.2  
**बधिरमा**  
बहरापन 164.2  
**बधु**  
पुत्र वधु 724.24  
**बधुटी**  
पुत्र वधु 724.24  
**बन**  
बन 202.34 ⇨  
वन 12.1  
**बन (औं)**  
बन 202.34  
**बनउर**  
ओला 54.15  
**बनकंडा**  
सुखा गोबर 110.13  
**बनकन्या**  
वनकन्या 12.6  
**बनखंड**  
वन 12.1  
**बनखंडी**  
वनवासी 616.21  
**बनघर**  
वन्य पशु 127.2  
**बनघीरी**  
सुरागाय 127.49  
**बनजारा [बनजारिन]**  
खानाबदोश 1090.44  
**बनजारगीरी**  
खानाबदोशी 1090.5  
**बनजारा सरदार**  
सार्धपति 657.14  
**बनझाऊ**  
सरो 13.23  
**बनका**  
बन्ना गीत 796.26  
वर 801.10  
**बनकी**  
बन्नी गीत 796.27  
वधु 801.11  
**बनत**  
अंग अनुपात 155.1  
घटना 75.1  
रचना विन्यास 527.8  
संघटना 545.2  
**बनदेई**  
वनदेवी 12.5  
**बनदेव**  
वन देवता 12.4

**बन देवता**  
वन देवता 12.4  
**बनदेवी**  
वनदेवी 12.5  
**बनन**  
संघटन 545.1  
**बनना**  
नाज़ नख़रा करना 860.12  
परस्पर निर्वाह होना 703.8  
मित्र बनना 705.19  
सफल होना 512.3  
समृद्ध होना 626.10  
सीदा तय होना 658.12  
**बनना ठनना**  
शृंगार करना 222.14  
सजना 226.10  
**बनपट**  
वन्य परिधान 583.6  
**बनबारी**  
वनकन्या 12.6  
**बन बिलाव**  
बन बिलाव 127.59 ⇨  
**बनबैर**  
बेरी 190.29  
**बनभानुस**  
बनभानुस 127.91 ⇨  
**बनमाली**  
उपवन कर्मी 12.28  
कृष्ण 771.1  
मालाकार 12.33  
**बनभूग**  
मोठ 188.15  
**बनरा**  
बन्ना गीत 796.26  
वर 801.10  
**बनराय**  
गहन वन 12.7  
बढ़ा वृक्ष 111.21  
सिंह 127.50  
**बनरिया**  
भादा बवर 127.87  
**बनरी**  
बन्नी गीत 796.27  
वधु 801.11  
**बनरुह**  
वन्य वृक्ष 111.22  
**बन वसन**  
वन्य परिधान 583.6  
**बनवा**  
पनहुब्बा 126.48  
**बनबारी**  
कृष्ण 771.1  
**बनवास**  
भूमिगतता 824.6  
**बनवासी**  
वनवासी 616.21  
**बन विहार**  
वन विहार 1085.9

**बनस्थली**  
वन 12.1  
**बनहटी**  
घाट नीका 1072.26  
**बना**  
वर 801.10  
**बना [बनी]**  
गढ़ा [गढ़ी] 545.27  
परिपाधित 195.65  
प्रसस्कृत 527.20  
रचित 527.12  
**बनाई**  
गढ़ाई 545.4  
प्रसंस्करण 527.7  
रचना कर्म 527.1  
**बना ठना**  
शृंगार प्रेमी (पुरुष) 222.5  
**बना ठना [बनी ठनी]**  
अलंकृत 227.4  
**बनात**  
बनात 580.33 ⇨  
**बनाना**  
अजित करना 648.4  
आधिष्कार करना 307.9  
उत्पादन करना 546.7  
उपहास करना 844.6  
कला कर्म करना 397.33  
गढ़ना 545.22  
छल करना 827.14  
परिपाधित करना 195.50  
प्रसंस्करण करना 527.10  
भवन बनाना 598.12  
भरस्मत करना 538.7  
रचित करना 527.9  
रसोई करना 195.43  
लाभ कमाना 646.11  
शिल्पित करना 557.13  
शृंगार कर्म करना 222.15  
संस्थापित करना 693.5  
सत्य अपलाप करना 821.15  
सृष्टि बनाना 529.4  
**बनाने वाला**  
रचेता 527.14  
**बनाबनत**  
जन्म पत्री विचार 799.33  
**बनाम**  
उर्फ़ 315.4  
तुलना में 309.23  
प्रतिद्विदितापूर्वक 707.15  
विपरीतत 310.10  
विरुद्धतः 886.8  
संबंधत 715.14  
**बनाया [बनाई]**  
उत्पादित 546.12  
मुँहबोला [मुँहबोली] 716.21  
**बनाया संबंध**  
मुँहबोला संबंध 716.12

## बनारसी

बनारसी  
आम सूची 190 10  
बनालू  
जमीकंद 189.21  
बनाय  
रचना कर्म 527 1  
बनायट  
अंग अनुपात 155.1  
अस्वाभाविकता 836 6  
रुद्र क्रामत 154 1  
घाटुकारिता 841 17  
छद्म 824 9  
तड़क मड़क 226.4  
दिखावा 825 1  
धर्म कर्म आडंबर 747.2  
परिधान काट 577.4  
पाखंड 825 2  
रचना विन्यास 527 8  
लिपि शैली 409 2  
बनायटी  
अघनिष्ठ 697.17  
अस्वाभाविक 836 12  
कूटकृत 98 14  
तथाकथित 821.21  
दिखावटी 825.5  
पाखंडपूर्ण 825 6  
मानव रचित 527.19  
बनायटीपन  
अस्वाभाविकता 836.6  
दिखावा 825 1  
मानव रचितता 527.5  
बनायटी प्रशंसा  
व्याज प्रशंसा 841.3  
बनायटी वेश  
छद्म वेश 589.16  
बनायनहार  
ईश्वर 764 1  
रचेता 527.14  
बनायनहारा [बनायनहारी]  
गढ़ैया 545.5  
रचेता 527 14  
बनाय शृंगार  
शृंगार 222.1  
बनाय सजाव  
शृंगार 222.1  
बनाय सिंगार  
शृंगार 222 1  
बनिज  
व्यापार 657.1  
बनिया  
पसारी 863 14  
परधूनिया 661.15  
वैश्य 731.24  
व्यापारी वैश्य 731.26  
बनियान  
बनियान 587.4  
व्यापारी वैश्य स्त्री 731.27

बनियान  
बनियान 587.4 ⇨  
बनियान: कपड़ा  
बनियान: कपड़ा 579.19 ⇨  
बनिया स्त्री  
व्यापारी वैश्य स्त्री 731.27  
बनिरबत  
तुलना मे 309.23  
सापेक्षतः 309.24  
बनी  
घघू 801.11  
वन्य भूमि 12.3  
बनी ठनी  
शृंगार प्रेमी (स्त्री) 222.8  
बनीर  
बैंत 923 8  
बनेठी  
पटेबाज़ी पटा 924.13  
बने रहना  
दीर्घ काल तक रहना 37.6  
बनेला [बनेली]  
वन्य 12.36  
वन्य पशु 127 2  
बनीरी  
ओला 54 15  
ओला वर्षा 54.16  
बन्ना  
बन्ना गीत 796 26  
बन्ना 801 10  
बन्ना गीत  
बन्ना गीत 796.26 ⇨  
बन्नात  
बनात 580 33  
बन्नी  
बन्नी गीत 796 27  
भोज भृति 643.10  
घघू 801 11  
बन्नी गीत  
बन्नी गीत 796.27 ⇨  
बपतिस्मा  
क्रिस्निग 798 31  
बपतिस्मा (ईसाई)  
धर्म ग्रहण: विधि सूची 742 12  
बपतिस्मा ताल  
बैपटिस्ट्री 745 26  
बपु  
अवतार 769 1  
बपीती  
उत्तराधिकार 623.1  
बप्पा  
पिता 717.4  
बक्र  
बक्र 582.15 ⇨  
बक्र (औं)  
बक्र 582.15  
बक्रर स्टेट (औं)  
मध्यवर्ती राज्य 881 7

बक्रा  
रूसी 215.7  
बक्राग  
प्रस्वेदन 215 4  
बक्र शेर  
बक्र शेर 127.52 ⇨  
बबलू  
शिशु 230.3  
बबुआ  
बक्रा जमींदार 553.15  
शिशु 230.3  
बबुई  
छोटी ननद 724.33  
बबूल  
नगर सूक्ष सूची 13.2  
बबूल 13.15 ⇨  
बबूला  
घक्रवात 85 10  
बुलबुला 88.14  
बबुर शेर  
बबुर शेर 127 52  
बबु  
शिशु 230.3  
बबनी  
बबनी छिपकली 123.8  
बबनी छिपकली  
बबनी छिपकली 123.8 ⇨  
बबु  
कथई 289.36  
शिय 767.1  
बबु धातु  
गेरू 290.21  
स्वर्ण 95 4  
बबु जाति  
भूरी जाति 730 11  
बब  
आतिशबाज़ी सूची 56.6  
बब 1076.23 ⇨  
बब गोला 927.12  
बब (बै.)  
विस्फोटक 544.11  
बबकना  
अग्नि उदीपत होना 107.11  
क्रुद्ध होना 373 15  
बबकिन (औं)  
मस्तूल: शहतीर 1073.15  
बब गोला  
बब गोला 927.12 ⇨  
बबधख  
तकरार 708.7  
बबधखिया  
तकरारी 708.14  
बबपुलिख  
सार्वजनिक शौचालय 216.19  
बब बब  
व्याहृति सूची 741.24  
बब बल्की  
बब 1076.23

बबबाज़  
बब वर्षक विमान 1074.18  
बबबाज़ी  
बबबारी 905.28  
बबबारी  
बबबारी 905.28 ⇨  
बब भोला  
शिय 767.1  
बबमार  
बब वर्षक विमान 1074.18  
बबमारी  
बबबारी 905 28  
बब वर्षक  
बब वर्षक विमान 1074.18  
बब वर्षक विमान  
बब वर्षक विमान 1074.18 ⇨  
बब वर्षा  
बबबारी 905.28  
बबिसाल  
उदाहरणतः 309.25  
बबीठा  
बौबी 603.6  
बबुक्राबला  
प्रतिद्विदितापूर्वक 707.15  
बबुक्रिकल  
कठिनतः 519.31  
बबुक्रिकल तमाम  
कठिनतः 519.31  
बबोट  
बौबी 603.6  
बबुनी  
अंजनहारी 167.6  
लाल मिट्टी 100.22  
बबैहत्था  
बबैहत्था 487.30 ⇨  
बबैहत्था [बबैहत्थी]  
बबैहत्था 487.30  
बबैहत्थापन  
बबैहत्थापन 487.11 ⇨  
बब  
ताना: कंधी 562.17  
बबन  
कधन 430.1  
बबना  
बायन 183.26  
वर्णन करना 449.19  
बबया  
तीलने वाला 962.66  
बबया 126.57 ⇨  
बबयाई  
तीलन 962.2  
बबयान  
उक्ति 434.1  
कधन 430.1  
बबयान 876.8 ⇨  
दक्तव्य 441.12  
वर्णन साहित्य 449.3  
वृत्तांत 449.14

**व्यान करना**  
वर्णन करना 449.19  
**व्यान देना**  
वक्तव्य देना 441.17  
**वयाना**  
अग्रिम धन 634.8  
वयाना 658.9 ⇐  
**वया पत्नी**  
वया 126 57  
**वयाबान**  
मरुथल 11 11  
**वयार**  
वयार 85.14 ⇐  
वायु 85 1  
सघल वायु 85 4  
**वयाला**  
परकोटा अस्त्र छिद्र 604 15  
**वरंगा**  
वैङ्गेर 611 24  
**वर**  
वाहक 1061.20  
सम्भोहनपूर्ण 367.7  
**वरअक्स**  
तुलना में 309 23  
विपरीत 310 7  
विपरीततः 310 10  
**वरइन**  
पनवाकिन 213 25  
**वरी**  
पनवाकी 213.24  
**वरकंदवाज़**  
बंदूकधारी 930 15  
**वरकत**  
अत्यधिकता 944 2  
प्रसाद 750 13  
लाभ 648 2  
समृद्धि 626 1  
सीमाग्य 260.17  
**वरकरार**  
असमाप्त 943 11  
रक्षित 908 19  
**वरकाज**  
विवाह 799.1  
**वरखा**  
वर्षा 54.5  
वर्षा काल 54.1  
**वरखा काल**  
वर्षा काल 54.1  
**वरखा रानी**  
वर्षा काल 54.1  
**वरख्वास्त**  
समापित (समा) 694.30  
**वरख्वास्तगी**  
समा समापन 694 23  
सेवा ध्युति 653.15  
**वरखा होना**  
वर्षा होना 54.17

**वरखिलाफ**  
विपरीत 310 7  
विरुद्धत 886 8  
विरोधी 886.7  
**वरखुरबार**  
पुत्र 718 3  
सीमाग्यशाली 260 33  
**वरख्वास्त**  
ध्युत 653 36  
**वरगद**  
वरगद 13.16 ⇐  
**वरगद फल**  
गोदा 190.17  
**वरगलाई**  
पट्टी पकाई 332 9  
**वरगलाना**  
उकसाना 499 6  
**वरगलाना**  
पट्टी पकाना 332 13  
**वरगलाया [वरगलाई]**  
उकसाया [उकसाई] 499 12  
**वरछा**  
भाला 925 4  
**वरछी**  
छोटा भाला 925 5  
**वरछेत**  
भालाधारी 930 16  
**वरजना**  
अनुमति न देना 338 19  
निषिद्ध करना 880 6  
**वरजबान**  
रटा [रटी] 356 23  
**वरजस्ता**  
पर्याप्त 941 6  
**वरजोरी**  
बलपूर्वक 487 31  
विवशत 901 13  
**वरत**  
नट रस्ती 473 14  
व्रत उपवास 748 1  
**वरतन**  
आयतन मापी पात्र 959 57  
वरतन 680.1 ⇐  
भोजन वरतन 680.17  
**वरतन: गला**  
वरतन गला 680.25 ⇐  
**वरतन: घोंघ**  
वरतन: घोंघ 680.23 ⇐  
**वरतन: टोंटी**  
वरतन टोंटी 680.24 ⇐  
**वरतन: डक्कन**  
घपनी 675.9  
**वरतन: पैदा**  
वरतन: पैदा 680.26 ⇐  
**वरतन: पैटा**  
वरतन: पैटा 680.28 ⇐  
**वरतन बाज़ार**  
वरतन बाज़ार 683.18 ⇐

**वरतन बासन**  
वरतन 680 1  
**वरतन भांडे**  
वरतन 680.1  
**वरतन मैजाई**  
वरतन मैजाई 218 9 ⇐  
**वरतन मौजना**  
वरतन मौजना 218 26 ⇐  
**वरतन: मुँह**  
वरतन: मुँह 680.22 ⇐  
**वरतन सैट**  
वरतन सैट 680.18 ⇐  
**वरतन सैट सूधी**  
वरतन सैट सूधी 680 19 ⇐  
**वरतन: हत्था**  
वरतन हत्था 680 29 ⇐  
**वरतना**  
उपभोग करना 524 10  
व्यवहार करना 828 5  
**वरतर**  
उत्तमतर 313 12  
उन्नत 534 10  
**वरतरक**  
ध्युत 653 36  
दूरस्थ 32 7  
विलगत 1011 7  
**वरतरफ़ी**  
सेवा ध्युति 653 15  
**वरता [वरती]**  
उपभुक्त 524 14  
**वरताई**  
उपभोग 524 1  
**वरता जाना**  
उपभुक्त होना 524 9  
**वरताव**  
आघरण 808 1  
उपभोग 524 1  
व्यवहार 703 2  
व्यवहार 828 1  
**वरताव करना**  
आघरण करना 808 9  
**वरती**  
उपवासक 748 19  
**वरती होना**  
उपवास रखना 748 17  
**वरदा**  
बैल 127.13  
युद्ध बंदी 868 20  
**वरदार**  
वाहक 1061 20  
**वरदारी**  
वहन 1061 1  
**वरदावत**  
प्रहार सहन शक्ति 920 2  
सहन 872.5  
**वरदावत अभाव**  
असहन 873 5

**वरदावत करना**  
प्रहार सहना 920 12  
सहन करना 872.9  
**वरदावत के बाहर**  
असह्य 873 14  
**वरन**  
अन्यथा 514 25  
बल्कि 507 18  
**वरना**  
चयन करना 1009 13  
निर्मत्रित करना 1056 5  
विवाह करना 799 45  
**वरनाला**  
वरनाला 23 10 ⇐  
**वरपा**  
सहसा आगत 1093 15  
**वरफ**  
वरफ 90 2 ⇐  
मलाई वरफ 203 50  
**वरफ़ख़ाना**  
वरफ़ख़ाना 90 3 ⇐  
**वरफ़: गाला**  
वर्षा हिम 54 14  
**वरफ़ानी**  
अति शीतल 105 20  
हिमयुक्त 90 16  
**वरफ़ी**  
वरफ़ी 203 27 ⇐  
**वरफ़ी आकृति**  
समातर फलक 977 20  
**वरफ़ीला [वरफ़ीली]**  
अति शीतल 105 20  
हिमयुक्त 90 16  
**वरबंदी**  
लोभिया 189 33  
**वरबरियत**  
दानवीयता 734 4  
**वरबंस**  
अप्रयत्नतः 490 15  
प्रयोजनहीनत 509 5  
बलपूर्वक 487.31  
विवशत 901 13  
**वरबादी**  
नाश 531 1  
**वरमा**  
वरमा 559 49 ⇐  
**वरमा करना**  
वरमा करना 564.11 ⇐  
**वरमा करने वाला**  
वरमा करने वाला 564 6 ⇐  
**वरमा कर्म**  
वरमा कर्म 564.5 ⇐  
**वरमा: वज़**  
वरमा वज़ 559.50 ⇐  
**वरमा वज़**  
वरमा वज़ 559 50  
**वरराना**  
बढ़बढ़ाना 428 15

## बरस

**बरस**  
वर्ष 42.8  
**बरस गौठ**  
जन्म दिवस 58.2  
**बरसता [बरसती]**  
निर्झरणाशील 21.38  
**बरसना**  
कुद्द होना 373.15  
झडना 1032.21  
वर्षा होना 54.17  
समृद्ध होना 626.10  
सुलभ होना 943.6  
**बरसाऊ**  
वर्षद 54.23  
वर्षयिता 54.22  
**बरसात**  
घार ऋतु सूची 51.14  
वर्षा 54.5  
वर्षा काल 54.1  
**बरसात होना**  
वर्षा होना 54.17  
**बरसाती**  
बरसाती कमरा 614.27  
बरसाती कोट 585.53  
वर्षद 54.23  
वर्षा कालीन 54.19  
**बरसाती कमरा**  
बरसाती कमरा 614.27 ⇨  
**बरसाती कोट**  
बरसाती कोट 585.53 ⇨  
**बरसाती गरमी**  
नमीदार गरमी 53.9  
**बरसाती छत**  
ढलवो छत 611.18  
**बरसाती जूता**  
बरसाती जूता 588.17 ⇨  
**बरसाती तुफान**  
ओंधी पानी 85.7  
**बरसाना**  
छिटकना 668.18  
छिडकना 668.20  
छितराना 668.21  
**बरसायत**  
इष्ट योग 261.29  
मगल काल 796.3  
विवाह मुहूर्त 799.37  
**बरसाव**  
बरसाव 668.11 ⇨  
**बरसी**  
पुण्य दिवस 58.3  
**बरसीला [बरसीली]**  
वर्षद 54.23  
**बरसू**  
वर्षद 54.23  
**बरसीरा**  
वर्षयिता 54.22  
**बरसीहा [बरसीही]**  
वर्षद 54.23

**बरहा**  
मोटा रस्ता 570.8  
**बरही**  
बरही 798.14  
**बरही**  
बरही 798.14 ⇨  
**बराडा**  
बराामदा 615.6  
**बराए**  
संबंधतः 715.14  
**बराए नाम**  
अत्यल्पत 942.24  
तथाकथितत 821.24  
**बराए मेहरबानी**  
दयापूर्वक 834.18  
**बरात**  
अव्यवस्थित समूह 690.4  
दल 691.1  
बराती 801.7  
वरयात्रा 800.43  
समूह 690.1  
**बरात आना**  
स्त्री का विवाह होना 799.44  
**बरात घर**  
बरात घर 802.28 ⇨  
**बरात घबना**  
पुरुष का विवाह होना 799.43  
वरयात्रा चलना 799.56  
**बरात जिमाई**  
बरात भोज 183.9  
**बरात भोज**  
बरात भोज 183.9 ⇨  
**बराती**  
बराती 801.7 ⇨  
**बरान कोट**  
ओवरकोट 585.51  
**बराबर**  
अविराम 1049.10  
अविरामत 1049.16  
आवश्यकतानुकूल 524.22  
जयपराजयहीनता 912.21  
निकट मे 31.9  
नियमितत 71.23  
पारस्परिक 703.10  
समकक्ष 851.5  
समतल 986.9  
समभार 963.16  
सममित 1026.8  
समसंख्यक 949.29  
समांतर 1026.7  
समाकार 978.4  
समान (प्रतियोगी) 707.10  
समान अशीय 939.12  
हमेशा 1049.17  
**बराबर करना**  
समकक्ष करना 851.4  
**बराबर का**  
समान (प्रतियोगी) 707.10

**बराबर का बैटवारा**  
समविभाजन 699.7  
**बराबर की टक्कर**  
समान प्रतियोगिता 707.3  
**बराबर दिन रात**  
वसंत विषुव 5.24  
विषुव 5.22  
**बराबर दूरी पर रहना**  
समांतर होना 1026.6  
**बराबर पहुँचना**  
समकक्ष पहुँचना 1095.9  
**बराबर फ्रांसला**  
समांतरता 1026.1  
**बराबर फ्रांसले पर होना**  
समांतर होना 1026.6  
**बराबर समझना**  
पक्षपात न करना 887.7  
समव्यवहार करना 830.5  
**बराबर हिस्सा**  
समान अंश 939.3  
**बराबर होना**  
समकक्ष होना 851.3  
समभार होना 963.9  
**बराबरी**  
उपमा अलंकार 454.4  
जयपराजयहीनता 912.8  
तुलना 309.1  
घृष्टता 734.8  
प्रतिद्वंद्विता 707.4  
प्रतियोगिता 707.2  
शत्रुता 706.1  
समकक्ष आगमन 1095.3  
समकक्षता 851.1  
समतलता 986.1  
समभारता 963.7  
सममिति 1026.2  
समव्यवहार 830.2  
समांतरता 1026.1  
समाकारता 978.1  
समान प्रतियोगिता 707.3  
सादृश्य 309.3  
**बराबरी का**  
समान (प्रतियोगी) 707.10  
**बराबरी दिखाना**  
उपमा देना 309.14  
**बराब**  
नीका पृष्ठ 1073.31  
**बरामब**  
उगाहा [उगाही] 634.24  
नदी परित्यक्त भूमि 25.5  
परिणामतः प्राप्त 510.11  
प्रतिलब्ध 863.8  
प्राप्त 837.8  
**बरामबगी**  
उगाही 634.1  
परिणाम प्राप्ति 510.2  
प्रतिलब्धि 863.3

**बरामबा**  
क्लीइस्टर 745.24  
बरामदा 615.6 ⇨  
**बराय**  
कारणतः 507.7  
**बरायन**  
बरायन 800.28 ⇨  
विवाह कलरा 802.21  
**बराय**  
नदी परित्यक्त भूमि 25.5  
**बरादुर्ब**  
वेतल चिट्ठा 632.24  
**बरास्ता**  
दिशा मे 29.35  
मार्ग से 1098.26  
**बराह**  
अनुसार 514.26  
दिशा में 29.35  
द्वारा प्रेषित 1054.18  
मार्ग से 1098.26  
**बराहे**  
मार्ग से 1098.26  
**बरिच्छा**  
वर रोक 800.45  
**बरी**  
अपराय मुक्त 869.9  
नियुक्त 503.9  
बड़ी 192.14  
**बरी घुना**  
कली घुना 290.23  
**बरुआ**  
उपनयन कृत शिष्य 798.21  
उपनयन संस्कार 798.20  
नटखट 860.27  
ब्रह्मचारी 234.4  
मूँज 568.1  
**बरैका**  
बैँकेर 611.24  
**बरैची**  
वर रोक 800.45  
**बरैच्छा**  
वर रोक 800.45  
**बरेज**  
पान. खेत 551.8  
**बरेजा**  
पान: खेत 551.8  
**बरेठा [बरेठिन]**  
धोबी 220.6  
**बरेत**  
मंथन रस्सी 554.15  
**बरेता**  
सन: मोटा रस्ता 570.9  
**बरेव**  
पान. खेत 551.8  
**बरोक**  
वर रोक 800.45  
**बरोठा**  
डेवकी 608.11



झाड़ग रूम 614.16  
 बटहरी 800.27  
 वर स्वागत 800.46  
**बरोठी**  
 डेवड़ी 808.11  
 झाड़ग रूम 614.16  
 बटहरी 800.27  
 वर स्वागत 800.46  
**बरोठे का चार**  
 वर स्वागत 800.46  
**बरोह**  
 वटवृक्ष जटा 112.18  
**बरीठा**  
 वर स्वागत 800.46  
**बरीनी**  
 पलक रोम 141.14  
**बर्करप्रसार**  
 दूतगामी [दूतगामिनी] 1044.7  
**बर्ड सैक्युअरी (ऑ)**  
 पक्षी अभयारण्य 12.10  
**बर्थ**  
 बर्थ 594.16 ⇨  
 र् (ऑ)  
 बर्थ 594.16  
 यान आसन 595.43  
 शायिका 1076.17  
**बर्थ कंट्रोल (ऑ)**  
 गर्भ निरोध 240.4  
**बर्थडे (ऑ)**  
 जन्म दिवस 58.2  
**बर्न**  
 बर्न 167.8 ⇨  
**बर्न (ऑ)**  
 बर्न 167.8  
**बर्निशिंग**  
 बर्निशिंग 218.13 ⇨  
**बर्निशिंग (ऑ)**  
 बर्निशिंग 218.13  
**बार्क**  
 बरफ़ 90.2  
**बार्कखाना**  
 बर्फ़खाना 105.12 ⇨  
**बार्क गाड़ी**  
 स्लेज 588.40  
**बार्क: नदी**  
 हिमनद 90.6  
**बार्क: स्केट**  
 बर्फ़ स्केट 588.38 ⇨  
**बार्कनी**  
 अति शीतल 105.20  
**बार्कीला [बार्कीली]**  
 अति शीतल 105.20  
 अति श्वेत 289.87  
**बार्कीला मीसम**  
 कड़ी सर्दी 53.2  
**बर्बट**  
 शस्त्र ध्वनि 296.17

**बर्बर**  
 अत्याचारी 835.13  
 अनार्य जातीय 732.15  
 घुंघराला 137.25  
 निर्दय 835.10  
**बर्बर जाति 732.8**  
**बर्बर जातीय 732.18**  
 वन्यतापूर्ण 734.17  
 हिंसक 251.31  
**बर्बर जाति**  
 बर्बर जाति 732.8 ⇨  
**बर्बर जातीय**  
 बर्बर जातीय 732.18 ⇨  
**बर्बरता**  
 असभ्यता 734.1  
 वन्यता 734.5  
**बर्बरतापूर्ण**  
 निर्दयतापूर्ण 835.9  
**बर्बरीक**  
 घुंघराले केश 137.13  
**बर्बरीकरण**  
 असभ्यीकरण 734.2  
**बर्बूर**  
 बबूल 13.15  
**बर्न (ऑ)**  
 सड़क कर्ब 1064.2  
**बर्मी झोला**  
 बगाली धौला 673.5  
**बर्**  
 मिड 122.34  
**बर्राना**  
 पागल होना 354.21  
 प्रलाप करना 428.13  
**बर्ह**  
 पक्षी. पूँछ 151.11  
 पूँछ पंख 151.12  
 मोर पूँछ 151.13  
**बर्हिकेश**  
 अग्नि 106.1  
**बर्ही**  
 तगर 274.22  
 मोर 126.88  
**बर्ल**  
 अलबेट 975.10  
 असुर सूची 783.8  
 आग्रह 349.1  
 ऊर्जा 101.1  
 कपड़ा: शिकन 975.8  
 करवट 1027.4  
 क्षमता 487.7  
 गतिक बल 1050.1  
 त्रिकलय 134.9  
 त्वचा बलय 134.8-  
 दाब 989.4  
 दैत्य सूची 783.19  
 पार्श्व 997.1  
 बलराम 771.74  
 मोड़ 974.10

यक्रता 974.1  
 बलय 975.9  
 शक्ति 487.1  
 शरण 910.4  
 शारीरिक बल 160.2  
 शिकन 975.7  
 संरक्षणपूर्ण सहायता 700.13  
 सवेग 1042.10  
 सेना 932.1  
**बल क्षय**  
 शक्ति नाश 488.2  
**बल खाना**  
 लचकना मटकना 1084.41  
**बल खाया [बल खाई]**  
 बल्यित 975.29  
**बलखाया [बलखाई]**  
 सपिल 974.19  
**बल खोना**  
 शक्ति नाश होना 488.6  
**बलगाम**  
 कफ 215.16  
**बलघक्र**  
 साम्राज्य 881.10  
**बल डालना**  
 बलय डालना 975.21  
**बलद**  
 शक्ति वर्धक 487.23  
**बलदाक**  
 बलराम 771.74  
**बलदार**  
 बलयित 975.29  
**बलदिया**  
 गाय भैंस घरवाहा 556.9  
**बल देना**  
 आग्रह करना 349.6  
 बटना 56.15  
 मरोड़ना 975.22  
**बलदैय**  
 बलराम 771.74  
**बल नाराक**  
 शक्ति नाशक 488.13  
**बलपति**  
 सेनापति 935.1  
**बल पर**  
 सहायता से 700.28  
**बल परीक्षा**  
 शक्ति परीक्षा 487.4  
**बलपूर्ण**  
 शक्तिशाली 487.20  
**बलपूर्वक**  
 बलपूर्वक 487.31 ⇨  
 बलिष्ठत 160.16  
**बल प्रयोग**  
 बल प्रयोग 487.5 ⇨  
**बलप्रसू**  
 रोहिणी 771.85  
**बलबल**  
 बड़बड़ाहट 428.8

बलबलाहट 298.23  
**बलबलाना**  
 प्रलाप करना 428.13  
 बड़बड़ाना 428.15  
**बलबलाहट**  
 बड़बड़ाहट 428.8  
 बलबलाहट 298.23 ⇨  
**बलबीर**  
 कृष्ण 771.1  
 बलिष्ठ पुरुष 160.4  
**बलबूता**  
 क्षमता 487.7  
**बलभद्र**  
 बलराम 771.74  
 बलिष्ठ पुरुष 160.4  
 लोप्र 14.24  
**बलम**  
 प्रेमी 368.2  
**बलमया**  
 प्रेमी 368.2  
**बलमू**  
 प्रेमी 368.2  
**बलराम**  
 कृष्ण भाता 771.11  
 बलराम 771.74 ⇨  
 विष्णु चौबीस अवतार सूची 769.9  
**बलराम: गुरु**  
 साद्रीपनि 771.97  
**बलराम: माता**  
 रोहिणी 771.85  
**बलराम: मूसल**  
 बलराम मूसल 771.75 ⇨  
**बलयंत**  
 बलिष्ठ 160.10  
**बलयंत [बलयंती]**  
 शक्तिशाली 487.20  
**बलयसा**  
 अयोप्यता 519.14  
 बलिष्ठता 160.1  
 शक्तिशालिता 487.2  
**बल बर्धक**  
 टोनिक 176.18  
 पीष्टिक 179.22  
 शक्ति वर्धक 487.23  
**बल बर्धन**  
 पोषण 179.1  
 शक्ति वर्धन 487.3  
**बलया**  
 उपद्रव 903.1  
 विद्रोह 903.3  
**बलयाई**  
 उपद्रवकारी 903.17  
 विद्रोही 903.18  
**बलवान**  
 अयोप्य 519.30  
 बलिष्ठ 160.10  
**बलवान [बलवती]**  
 शक्तिशाली 487.20

## बल विन्यास

बल विन्यास  
 व्यूह रचना 907 9  
 बलवीर  
 बलिष्ठ 160.10  
 बलशालिना  
 अयोध्यता 519 14  
 शक्तिशालिता 487 2  
 बलशाली  
 अयोध्य 519 30  
 बलिष्ठ 160 10  
 बलशाली [बलशालिनी]  
 शक्तिशाली 487 20  
 बलहीन  
 अप्रबल 488 14  
 अबलिष्ठ 159 12  
 असैन्य 932 36  
 क्षमताहीन 488 15  
 शक्तिहीन 488 10  
 बलहीनता  
 अबलिष्ठता 159 3  
 शक्तिहीनता 488 1  
 सीध 974 9  
 बलज्ञान  
 शक्ति नारा 488.2  
 बला  
 छोटी बहन 723 14  
 भूत 786.1  
 भूतनी 786 2  
 रोग 163.1  
 सकट 909 1  
 संकटप्रद वस्तु 909 8  
 बलाएँ लेना  
 वारफेर करना 710 19  
 बलाएँ आसमानी  
 ईश्वरीय सकट 909 4  
 बलाक  
 बगला 126 54  
 बला का  
 उत्तम 313 13  
 विलक्षण 312 16  
 बलाघात परिवर्तन  
 काकु 465.14  
 बलात  
 बलपूर्वक 487 31  
 बलात देना  
 बलात देना 638 10 ⇨  
 बलात प्रवेश  
 घुसन 1094.13  
 बलातिरेक  
 सपिलता 974 5  
 बलात्कार  
 अत्याचार 835 3  
 बलात्कार 237 11 ⇨  
 बलात्कारक  
 बलात्कारी 237 20  
 बलात्कारी  
 बलात्कारी 237.20 ⇨

बलात्कारी राक्षस  
 काम राक्षस 785.6  
 बलात्कारी राक्षसी  
 काम राक्षसी 785.7  
 बलात् आदान  
 छीन 635 7  
 बलात् ग्रहण  
 अधिग्रहण 635 1  
 छीन 635 7  
 बलात् सत्ता अपहरण  
 सहसा सत्ता अपहरण 902.6  
 बलाद्ग्रहण  
 छीन 635 7  
 बलाद्भोगी  
 बलात्कारी 237 20  
 बलाध्यक्ष  
 सेनापति 935.1  
 बलानुज  
 कृष्ण 771 1  
 बलापहरण  
 छीन 635 7  
 बलाय  
 भूत बाघा 759 7  
 बलारि  
 इंद्र 773.5  
 बलाहक  
 पर्वत 16.3  
 मेघ 55 1  
 सर्प सूची 123 16  
 बलि  
 आहुति दान 753 6  
 छप्पर. किनारा 615 2  
 दैत्य सूची 783 19  
 नैवेद्य 750 7  
 पशु बलि 754 8  
 बलि 769.37 ⇨  
 बलि वस्तु 754 2  
 यज्ञ मांस 206 15  
 राज्य देय उपज 647 30  
 बलि करना  
 बलि करना 754 18 ⇨  
 बलि कर्ता  
 बलि दाता 754 22  
 बलि कर्म  
 बलि कर्म 754 1 ⇨  
 बलि का बकरा  
 बलि छाग 754 12  
 बलि: गाय  
 बलि गाय 754.18 ⇨  
 बलि गो  
 बलि गाय 754 16  
 बलि: घोड़ा  
 अश्वमेध घोड़ा 754 14  
 बलि घड़ना  
 आ.मबलि देना 754 19  
 बलि घड़ाना  
 बलि करना 754 18

बलि छाग  
 बलि छाग 754.12 ⇨  
 बलि जाना  
 वारफेर करना 710.19  
 सम्मोहित होना 367.4  
 बलित  
 बलिदत्त 754 21  
 बलिदत्त  
 बलिदत्त 754.21 ⇨  
 बलि दाता  
 बलि दाता 754.22 ⇨  
 बलिदान  
 आत्मबलि 754.3  
 बलि कर्म 754.1  
 स्वार्थ त्याग 712.8  
 हिंसक बलि 754.4  
 बलिदानि  
 आत्मबलिदानि 754.23  
 बलि दाता 754 22  
 स्वार्थ त्यागी 712 19  
 बलि देना  
 बलि करना 754 18  
 बलि द्वारा  
 यस्त विषुव 5 24  
 बलिद्वेषी  
 वामन अवतार 769 36  
 बलिध्वंसी  
 वामन अवतार 769.36  
 विष्णु 768.1 /  
 बलि पशु  
 बलि पशु 754.10 ⇨  
 बलि पशु: खूँटा  
 यज्ञ स्तंभ 753.19  
 बलि पशु बंधन: स्थान  
 यज्ञ स्तंभ स्थान 753.20  
 बलि पशु यध  
 पशु बलि 754.8  
 बलि पाताल गमन  
 दीवाली 57 15  
 बलि: पिता  
 बलि: पिता 769.38 ⇨  
 बलिपुष्ट  
 कीआ 126.22  
 बलिभोग  
 नैवेद्य 750 7  
 बलि मांस  
 यज्ञ मांस 206.15  
 बलिमा  
 बलिष्ठता 160 1  
 बलि: माता  
 बलि: माता 769.39 ⇨  
 बलिमुख  
 बंदर 127 86  
 बलि यज्ञ  
 हिंसक बलि 754 4  
 बलि रज्जु  
 बलि रज्जु 754.6 ⇨

बलिरिपु  
 वामन अवतार 769.36  
 बलि वस्तु  
 बलि वस्तु 754.2 ⇨  
 बलि विषयक  
 बलि विषयक 754.20 ⇨  
 बलिवेदी  
 बलिवेदी 754.5 ⇨  
 वेदी 745 45  
 बलिदेशम  
 पाताल 258 9  
 बलि कैश्वदेव  
 हिंसक बलि 754.4  
 बलि कैश्वदेव यज्ञ  
 यज्ञ सूची 753 2  
 बलिश  
 मत्स्य आखेट. कौटा 252.17  
 बलिष्ठ  
 बलिष्ठ 160.10 ⇨  
 बलिष्ठता:  
 बलिष्ठता: 160.18 ⇨  
 बलिष्ठता  
 बलिष्ठता 160 1 ⇨  
 बलिष्ठ पुरुष  
 बलिष्ठ पुरुष 160.4 ⇨  
 बलि स्तंभ  
 यज्ञ स्तंभ 753.19  
 बलि स्थान  
 बलिवेदी 754.5  
 बलिहंता  
 विष्णु 768.1  
 बलिहारना  
 वारफेर करना 710.19  
 बलिहारी  
 वारफेर 710.12  
 बलिहारी जाना  
 वारफेर करना 710 19  
 बलिहारी लेना  
 वारफेर करना 710 19  
 बली  
 शूरी 134.11  
 त्रिपल्लय 134.9  
 नर भंस 127 20  
 बलराम 771.74  
 बलिष्ठ 160 10  
 योद्धा 934.15  
 शक्तिशाली 487 20  
 शिकन 975.7  
 शिव 767 1  
 सैनिक 934.1  
 बलीय  
 बलि विषयक 754.20  
 बलीयर्द  
 बेल 127 13  
 सौंड 127 12  
 बलुआ  
 रैतीला [रैतीली] 100.23

बलुआ बलबल  
बलुआ बलबल 25.29 ⇨  
बलुआ पत्थर  
बलुआ पत्थर 99.5 ⇨  
बलुई मिट्टी  
दोमट 100.17  
बलूचिस्तान  
बलूचिस्तान 27.22 ⇨  
बलूचिस्तान से बरमा तक क्षेत्र  
भारत उपमहाद्वीप 27.5  
बलैक आउट (अँ)  
ब्लैक आउट 286.3  
बलैयी  
वारफेर 710 12  
बल्कि  
और मी 945 11  
बल्कि 507.18 ⇨  
बल्ब  
बल्ब 285 23 ⇨  
बल्ब (अँ)  
कदाकार पिंड 976.8  
शल्क कद 111 12  
बल्मीक  
बॉबी 603 6  
बल्सम  
भाला 925 4  
राजदंड 408 14  
बल्सम बरदार  
भालाधारी 930 16  
बल्सव  
गाय रस. घरवाहा 558 9  
घरवाहा [घरवाहन] 556 8  
बल्सव (अज्ञातवास: नाम)  
भीम 771 76  
बल्सवी  
गोपी 771.32  
बल्सा  
कटलेट 200.15  
डंडा 923 5  
पाइ 599 30  
बल्ला 479.30 ⇨  
बल्ला 597.5 ⇨  
रैकिट 479.32  
लीलीपीप 203.56  
बल्सी  
गहराई माप 958 17  
डॉइ 1073.5  
पाइ 599.30  
बम 1076 23  
बल्सी 597.6 ⇨  
मस्तूल 1073 11  
बल्सी संत  
कृषि रत्नक पुतला 550.3  
बल्से बल्से  
शाबारी: उद्गार सूची 841.40  
बर्बडर  
बर्बवात 85.10

बर्बडरीय  
उच्चक्रिल 973 12  
बचना  
छितराना 668.21  
बवासौर  
गुदारुद 186.2  
बशार  
मानव 128.1  
व्यक्ति 689 1  
बशार्त  
परंतुकतापूर्ण 339 37  
बशार्त  
परतुकत 339.50  
यदि 507 12  
बशार्त कि  
परतुकत 339 50  
यदि 507 12  
बशोशर  
विश्वेश्वर 746 13  
शिय 767 1  
बसंत  
वसंत काल 52 1  
बसंत पंचमी  
वसत पंचमी 57 23  
बसंत रितु  
वसत काल 52 1  
बसंता  
बसता 126 58 ⇨  
बसंती  
पीला वस्त्र 578 21  
बसंती 289 55 ⇨  
मादक 211 12  
युवा 231 12  
वसंत कालीन 52.3  
बस  
अधिकार 897 1  
अलं 941 10  
इत्यल 941 11  
नियत्रण 899.10  
बस 1071 60 ⇨  
मात्र 946 19  
वरा 899.13  
सीमा तक 1001 44  
बस (अँ)  
बस 1071 60  
बस अभी  
निकट भविष्य मे 36 35  
बस आपरेटर  
बस आपरेटर 1079.16 ⇨  
बस आपरेटर (अँ)  
बस आपरेटर 1079 16  
बस एक  
एकमात्र 946.20  
बस काशी है  
इत्यल 941 11  
बस के बाहर होना  
वशतर होना 900 5

बस गाड़ी  
बस 1071 60  
बस चलना  
वरा होना 899 21  
बस ठीक  
काम चलाऊ 941.7  
बसन  
परिधान 583 1  
बस न चलना  
वरा न होना 900 6  
बसना  
आरंजित होना 291 6  
आवासित करना 618 17  
थैली 673 12  
निवासी होना 616 12  
बस्ता 673 11  
विवाह करना 799 45  
संसिक्त होना 1008 23  
बसनी  
रुपया थैली 672 10  
बसने वाला  
आयासी 618 25  
बस परिहवन  
बस सेवा 1068 5  
बस में करना  
टोना करना 759 16  
वशाधीन करना 901 6  
वशीकरण करना 758 36  
बस में न होना  
वशतर होना 900 5  
बस मे होना  
वशाधीन होना 901 5  
बसर  
जीवन निर्वाह 625 2  
परस्पर निर्वाह 702 3  
बसर गीकात  
जीवन स्तर 625 1  
बसली  
नीली 672 8  
बस सविस्त (अँ)  
बस सेवा 1068 5  
बस सेवा  
बस सेवा 1068.5 ⇨  
बसोधा [बसोधी]  
सोधा [सोधी] 197 47  
बसा [बसी]  
आवासित 618.23  
किण्वित 195.59  
दुर्गंधपूर्ण 273 16  
सुगंधित 274 31  
सुरंजित 291.16  
स्रीधा [सोधी] 197 47  
बसा न होना  
आवासित न होना 617 9  
बसाना  
सुगंधित करना 274 30  
स्थित करना 1020 7

बसाने वाला  
आयासी 618 25  
बसापन  
आवासितता 616.6  
बसाल्ट  
बसाल्ट 99.6 ⇨  
बसाल्ट (अँ)  
बसाल्ट 99 6  
बसायट  
आवासितता 616 6  
बसा होना  
निवासी होना 616 12  
बसिया  
आयासी 618 25  
बासी 197 45  
बसियौरा  
प्रात बासी उपाहार 200 3  
बसिष्ठ  
यसिष्ठ 789 18  
बसीठ  
दूत 443 9  
बसीला [बसीली]  
सोधा [सोधी] 197 47  
बसुरत  
परिस्थिति मे 69 14  
बसूला  
बसूला 559 25 ⇨  
बसूली  
बसूली 559 26 ⇨  
बसेरा  
अस्थायी स्थान 618 15  
गृह 601.1  
दूरिस्ट लीज 1090 22  
नीड 603 3  
बसेसर  
विश्वेश्वर 746 13  
बसेया  
आयासी 618.25  
बसोधा [बसोधी]  
सोधा [सोधी] 197 47  
बसोधी  
रबड़ी 203 31  
बस्ट (अँ)  
आयक्ष मूर्ति 406 4  
बस्त  
वस्तु 666 1  
सामान 666 3  
बस्ता  
गठरी 674 2  
पुलिदा 674 8  
बस्ता 673.11 ⇨  
बस्तार  
पुलिदा 674 8  
बस्ती  
उपनिवेश 881 11  
ग्राम 620 1  
बस्ती 619.1 ⇨  
महत्त्वा 619 6

## बस्ती निर्माण

### बस्ती निर्माण

बस्ती निर्माण 599.5 ⇨

### बस्ती निर्माता

बस्ती निर्माता 599.6 ⇨

### बस्ती बसाना

बस्ती बसाना 599.36 ⇨

### बहंगा [बहंगी]

भंगा [भंगी] 164.11

### बहंगिया

कौवर यात्री 1089.6

### बहंगी

कौवर 1071.20

### बहत

ग्लाइडिंग 1081.21

जल प्रवाह 21.9

तरण 483.20

प्रवहन 1041.2

प्रवाह 1041.1

### बहक

दुश्चरित्रता 811.1

प्रलाप 428.6

मार्गच्युति 1099.2

### बहकना

गर्वाक्ति करना 842.7

दुश्चरित्र होना 811.4

प्रलाप करना 428.13

बकवास करना 428.14

मार्गच्युत होना 1099.5

लक्ष्य च्युत होना 931.19

### बहका [बहकी]

प्रमित 342.10

प्रष्टधी 302.10

### बहकाई

पट्टी पढाई 332.9

### बहकाऊ

घकमेबाज़ 819.18

मार्गच्युत कर्ता 1099.9

### बहकाना

उकसाना 499.6

घकमा देना 819.14

पट्टी पढाना 332.13

### बहकाने वाला

उकसाने वाला 499.13

मार्गच्युत कर्ता 1099.9

### बहका बहका

बकयासपूर्ण 428.25

### बहकाया [बहकाई]

उकसाया [उकसाई] 499.12

### बहकाघट

दुरी सीख 332.8

### बहकावा

उकसाया 499.4

घकमा 819.9

छल 827.7

मिथ्या सात्वना 393.6

### बहकावा देना

घकमा देना 819.14

### बह जाना

प्रवाहित होना 1041.4

### बहता [बहती]

निर्झरणील 21.38

प्रवाहशील 1041.8

प्रवाहित (जल) 21.39

### बहता जुकाम

नज़ला 163.17

### बहता पानी

प्रवाहशील जल 21.11

### बहती

दुगी पारपत्र 647.18

जावक पत्र 1054.7

पार गमन अनुमति 1097.2

### बहती गंगा में हथ धोना

अवसर उपभोग करना 70.11

### बहती धारा

धारा 21.14

### बहती हवा

सथल वायु 85.4

### बहत्तरी

ओल्ड टैस्टामैट 739.11

### बहन

जल प्रवाह 21.9

तरण 483.20

नामात स्त्री उपाधि सूची 856.9

प्रवहन 1041.2

बहन 723.6 ⇨

आय 1032.1

आय 83.3

### बहन जी

अध्यापिका 323.9

### बहन भेटियाँ

परिवार स्त्रियाँ 726.10

### बहन बेटी

परिवार स्त्रियाँ 726.10

### बहना

उँडलना 1032.18

उत्स्रोत होना 21.28

जल प्रवाह होना 21.30

प्रवाहित होना 1041.4

बहन 723.6

### बहनापा

भगिनीत्व 723.5

### बह निकलना

द्रवित होना 80.4

प्रवाहित होना 1041.4

### बहनिया

बहन 723.6

### बहनी

बहन 723.6

### बहनेली

मुँहबोली बहन 723.24

### बहनोई

जीजा 724.35

### बहनोली

मुँहबोली बहन 723.24

### बहनीता

भानजा 722.43

### बहनीती

भानजी 722.44

### बहम

रोग भ्रम 353.7

सदेह 341.3

### बहर हाल

अवश्यमेव उक्ति सूची 68.23

उठते बैठते 1049.18

### बहरा [बहरी]

बहरा [बहरी] 164.7 ⇨

### बहरापन

बहरापन 164.2 ⇨

### बहरापन (दे.)

अश्रयण 293.3

### बहरा बनना

न सुनना 293.8

### बहकल्काहिल

प्रशात महासागर 24.17

### बहकपिया

अभिनेता 464.5

छद्म वेशी 589.17

नट 473.10

शिय 767.1

स्यांगी 464.14

### बहल

अत्यधिक 944.7

ककेश स्वरीय 289.26

प्रगाढ़ 81.14

बैल 127.13

बैलगाड़ी 1071.42

भार वाहक 1061.22

विस्तीर्ण 981.10

सुदृढ़ 160.15

### बहल खाना

गाड़ीघर 1069.26

### बहलना

मनोरजन करना 469.9

### बहलवान

गाड़ीवान 1079.9

### बहला [बहली]

मनोरजित 469.12

### बहलाना

फुसलाना 374.16

सात्वना देना 393.12

### बहलाय

फुसलाया 374.10

मनोरजन 469.1

### बहलाया

फुसलाया 374.10

मिथ्या सात्वना 393.6

### बहलावा फुसलावा

फुसलाया 374.10

### बहलिया

गाड़ीवान 1079.9

### बहली

छोटी बैलगाड़ी 1071.43

### बहवानीक

बहुफलक 977.24

### बहस

जिरह 876.7

प्रतिद्विदिता 707.1

वाद विवाद 324.3

### बहस करना

वाद विवाद करना 324.19

### बहसबाज़

वितडावादी 324.27

### बहस मुबाहिसा

वाद विवाद 324.3

### बहसाबहसी

तकरार 708.7

प्रतिद्विदिता 707.1

### बहसिया

वाद विवाद कर्ता 324.25

वितडावादी 324.27

### बहसी

वाद विवाद कर्ता 324.25

वितडावादी 324.27

### बहा [बही]

प्रवाहित 1041.7

### बहाई

जल अवतारण 1080.9

बहाई 736.6 ⇨

### बहाउल्लाह: मतानुयायी

बहाई 736.6

### बहाऊ

प्रवाहक 1041.6

### बहादुर

वीर 396.6

वीर पुरुष 396.2

साहसी 394.13

सैनिक 934.1

### बहादुरी

वीरता 396.1

साहस 394.1

### बहाना

अपव्यय करना 644.15

कारण 507.3

जलायतारण करना 1080.37

प्रयोजन 508.1

बहाना (मकर) 495.4

### बहाना (मकर)

बहाना (मकर) 495.4 ⇨

### बहाने

कारणतः 507.7

प्रयोजनतः 508.11

बहाने से 495.17

### बहानेबाज़

बहानेबाज़ 495.15 ⇨

### बहानेबाज़ी

बहानेबाज़ी 495.5 ⇨

### बहानेबाज़ी करना

बहानेबाज़ी करना 495.10 ⇨

### बहाने लगाना

बहानेबाज़ी करना 495.10

- बहाने बाला  
प्रवाहक 1041.6
- बहाने से  
बहाने से 495.17 ⇨
- बहार  
आनंद 382 1  
उन्नति काल 534.2  
वीवन 231 6  
वर्षा काल 54 1  
वसंत काल 52 1
- बहार कुर्ज  
छोटा गुबद 611.6
- बहाल  
नियुक्त 653 32  
पुनर्स्थापित 1036 15  
स्थित 1020 8
- बहालत  
परिस्थिति में 69.14
- बहाली  
पद नियुक्ति 653 6  
पुनर्स्थापना 1036 7
- बहाव  
जल प्रवाह 21.9  
लय 458 22  
सवेग 1042.10
- बहावदार  
प्रवाहशील 1041 8
- बहावन  
प्रवाहन 1041.3
- बहिः-  
बाह्य 999 15
- बहिः प्रजनन  
बहिः प्रजनन 243.5 ⇨
- बहिन  
बहन 723 6
- बहिनापा  
भगिनीत्व 723.5
- बहियाँ  
मुजा 149.5
- बहिरंग  
बहिरिंद्रिय 268.3  
बहिर्यासी 616.15  
बाह्य 999.15
- बहिरंगता  
बहिर्यास 616.4
- बहिरभिमुखता  
बहिरभिमुखता 837.6 ⇨
- बहिरभिमुखी  
बहिरभिमुखी 837.15 ⇨
- बहिरावास  
बहिर्यास 616.4
- बहिरिंद्रिय  
बहिरिंद्रिय 268.3 ⇨
- बहिर्येत्र  
सीमांत क्षेत्र 34.4
- बहिर्यम  
निर्गम 1092.1
- बहिर्यमन  
निर्गमन 1092.2
- बहिर्यमनशील  
निर्गमनशील 1092 16
- बहिर्यामी  
निर्गम कर्ता 1092.17
- बहिर्यह  
बाहरगाँव 1022 9
- बहिर्यप्राम  
बाहरगाँव 1022 9
- बहिर्यदेश  
सीमांत प्रदेश 1001 26
- बहिर्यदेशीय  
सीमांतरीय 1001 40
- बहिर्यदेशीयता  
सीमांतरता 1001.24
- बहिर्यद्वार  
निर्गम द्वार 608 4
- बहिर्यनिवास  
बहिर्यास 616 4
- बहिर्यनिष्कर्षण  
उद्देश्य 1017 2
- बहिर्यमार्ग  
निर्गम मार्ग 1092 3
- बहिर्यमुखतः  
विमुखतः 1023 16
- बहिर्यमुखता  
बहिर्यभिमुखता 837.6
- बहिर्यमुखी  
केन्द्रविमुख 1023 12
- बहिर्यभिमुखी 837 15
- बहिर्यमुखी व्यक्तित्व  
बहिर्यभिमुखता 837 6
- बहिर्ययात्रा  
विदेशाटन 1090 11
- बहिर्यवर्ती  
बाह्य 999.15
- बहिर्यवास  
बहिर्यास 616 4 ⇨
- बहिर्यवासी  
बहिर्यासी 616.15 ⇨
- बहिर्यरत  
बिहिरत 259.2  
स्वर्ग 259.1
- बहिर्यकार  
बहिर्यकार 870.13 ⇨
- बहिर्यकारक  
बहिर्यकारक 870.30 ⇨
- बहिर्यकार करना  
बहिर्यकार करना 870.20 ⇨
- बहिर्यकार कर्ता  
बहिर्यकारक 870.30
- बहिर्यकृत  
जाति निर्वासित 870.28
- बहिर्यकृत 870.31 ⇨
- बहिर्यकृत करना  
बहिर्यकार करना 870.20
- बहिर्यकृतः पुनर्विधान  
पुनरंगीकरण 870.15
- बहिर्य  
रजिस्टर 415 18  
लेखा पुस्तक 632.8
- बहिर्य करण  
लेखाकरण 632 30
- बहिर्यखाता  
लेखा पुस्तक 632.8
- बहिर्यवगो (अरबी)  
आशुकवि 448 14
- बहु  
अधिक 944 5  
विधिघ 310.8
- बहुआयामता  
पिडाकारता 976 2
- बहुआयामिता  
बहुपार्श्वीयता 997 2
- बहुआयामी  
पिडाकार 976.15  
बहुपक्षीय 885 32
- बहुआयामीय  
बहुपार्श्वीय 997 10
- बहुकटक  
कटकयुक्त 115 15
- बहुकर  
बहुव्यवसायी 650 26  
बुहारने वाला 218 40  
संवरण कर्ता 667.19
- बहुकर्री  
झाड़ू 218 17
- बहुकर्मा  
बहुव्यवसायी 650 26
- बहुकोण  
बहुभुज 999 18
- बहुकोणीय  
बहुभुज 969 18
- बहुकोणीयता  
बहुभुजता 969.7
- बहुकर्म  
आज्ञापूर्वक 347.21
- बहुखंडी भवन  
बहुखंडी भवन 602.21 ⇨
- बहुखंडीय  
बहुखंडीय 612 8 ⇨
- बहुखंडीयता  
बहुखंडीयता 612.7 ⇨
- बहुगमन  
विवाह अनिच्छा 806.1
- बहुगामिनी  
व्यभिचारिणी 806.11
- बहुगामी  
व्यभिचारी 806.10
- बहुगुणता  
बहुगुणता 313.7 ⇨
- बहुगुणा  
बहुगुणी 313 16
- बहुगुणी  
बहुगुणी 313.16 ⇨
- बहुगुना  
भिगीना 682.17
- बहुद्यमित  
बहुद्यमित 436.10 ⇨
- बहुजननी  
बहुजननी 243 12 ⇨
- बहुजनहितार्थ  
लोकार्थ 832 13
- बहुजल्प  
वाद्याल 428.22
- बहुजल्पिता  
वाद्यालता 428.5
- बहुज्ञ  
अनेक विषय विद्वान 319 9
- बहुज्ञता  
सर्वज्ञता 305 18
- बहुत  
अत्यधिक 944 7  
अधिक 944 5  
अर्ध 941 10  
इत्यलं 941.11  
सुलभ 943.10
- बहुत अच्छा  
उत्तम 313 13  
सर्वगुण संपन्न 313.17  
स्वीकृतिः उक्ति सूची 337.28
- बहुत अच्छापन  
उत्तमतमता 313.3
- बहुत अच्छे  
शाबारी उद्गार सूची 841 40
- बहुत कैचा  
अत्युच्च 982.10
- बहुत कैचाई  
अत्युच्चता 982 3
- बहुत कड़वा  
बहुत कड़वा 276.8 ⇨
- बहुत खाना  
अत्याहार करना 182.11
- बहुत खूब  
शाबारीः उद्गार सूची 841 40  
स्वीकृतिः उक्ति सूची 337 28
- बहुत गरम  
अति उष्ण 104.20
- बहुत गहरा  
अगाध्य 984.10
- बहुत गीला  
अति आर्द्र 88.28
- बहुत चरपरा [बहुत चरपरी]  
शुभ कल्प [शुभ कल्प] 278.13 ⇨
- बहुत जल्दी  
आसन्नतः 87.12
- बहुत ज्यादा  
अत्यधिक 944 7
- बहुत ठिगना  
बहुत ठिगना 154.19 ⇨

## बहुतता

**बहुतता**  
अधिकता 944 1  
**बहुततायत**  
समुद्दि 626 1  
**बहुत तीखा**  
बहुत चरपच [बहुत चरपरी] 278 13  
**बहुत धकना**  
बहुत धकना 492.11 ⇨  
**बहुत धका**  
बहुत धका 492 16 ⇨  
**बहुत दिन**  
दीर्घ काल 37 5  
**बहुत दिन हुए**  
सुदूर भूत में 36 32  
**बहुत दूर**  
सुदूरस्थ 32 8  
**बहुत दूरी**  
सुदूरता 32.2  
**बहुत देर में**  
विलम्बत 495 16  
**बहुत पहले**  
समय पूर्वत 62 24  
सुदूर भूत में 36.32  
**बहुत पहले का**  
सुदूर भूत कालीन 36 20  
**बहुत पुराना नहीं**  
निकट भूत कालीन 36.19  
**बहुत प्यासा होना**  
बहुत प्यासा होना 180.13 ⇨  
**बहुत बड़ा छिद्र**  
बहुत बड़ा छिद्र 271 11 ⇨  
**बहुत बार**  
अनेकदा 73.6  
**बहुत बुरा**  
निकृष्टतर 314 6  
**बहुत बोलना**  
वाचाल होना 428.12  
**बहुत भूखा होना**  
बहुत भूखा होना 180.9 ⇨  
**बहुत लंबा**  
बहुत लंबा 154.14 ⇨  
**बहुतलीय**  
बहुखंडीय 612 8  
**बहुतलीयता**  
बहुखंडीयता 612.7  
**बहुत सारा**  
अधिक 944 5  
**बहुता**  
अनेकता 940.2  
विविधता 310.3  
सुलभता 943.2  
**बहुतायत**  
अत्यधिकता 944.2  
माल बहुतायत 656 3  
सुलभता 943.2  
**बहुतेरा [बहुतेरी]**  
अत्यधिक 944.7

**बहुदर्शी**  
अनेक विषय विद्वान 319 9  
**बहुदा**  
अनेकदा 73 6  
**बहुदिश**  
सर्वतोमुखी 29 29  
**बहुदिशाता**  
सर्वतोमुखता 29.8  
**बहुदेववाद**  
अनेकेश्वर वाद 760.17  
**बहुदेरीय**  
अंतरराष्ट्रीय 35 8  
**बहुधंधिता**  
बहुव्यवसायिता 650.11  
**बहुधंधी**  
बहुव्यवसायी 650 26  
**बहुधर्मवाद**  
राष्ट्रवाद 884.27  
**बहुधा**  
अनेकदा 73 6  
प्रायः 73.7  
विविध 310 8  
**बहु धुवता**  
बहु धुवता 885.14 ⇨  
**बहुनाद**  
राख 461 78  
**बहुपक्षीय**  
बहुपक्षीय 885.32 ⇨  
**बहुपतित्व**  
बहुपतित्व 799.9 ⇨  
**बहुपत्नीत्व**  
बहुपत्नीत्व 799 11 ⇨  
**बहुपद**  
बरगद 13 16  
**बहुपरिचय**  
मिलनसारिता 696 8  
**बहु परिधित**  
बहु परिधित 704.25 ⇨  
**बहु परिधितता**  
बहु परिधितता 704.11 ⇨  
**बहुपार्थयिता**  
बहुपार्थयिता 997.2  
**बहुपार्थीय**  
बहुपार्थीय 997.10 ⇨  
**बहुपार्थीयता**  
बहुपार्थीयता 997 2 ⇨  
**बहुपार्ष**  
बहुफलक 977.24  
**बहुपुष्प**  
नीम 13 12  
**बहुप्रधलित**  
सामान्य 311.3  
**बहुप्रचलित विधि**  
परिपाटी 514 9  
**बहुप्रज**  
घूहा 127.60  
**बहुप्रदेश वाद**  
राष्ट्रवाद 884 27

**बहुप्रशस्त**  
प्रशस्त 841.29  
**बहुप्रसवा**  
बहुजननी 243.12  
**बहुप्रसू**  
बहुजननी 243.12  
**बहुप्राणाति**  
ओजोन 86.4  
**बहुफलक**  
बहुफलक 977.24 ⇨  
**बहुबाहु**  
बहुभुज 969 18  
रावण 784.12  
**बहुबाहुता**  
बहुभुजता 969.7  
**बहुभाग्य**  
सौभाग्यशाली 260.33  
**बहुभार्यत्व**  
बहुपत्नीत्व 799.11  
**बहुभाषावाद**  
राष्ट्रवाद 884 27  
**बहुभुज**  
बहुभुज 969.18 ⇨  
**बहुभुजता**  
बहुभुजता 969.7 ⇨  
**बहुभुजा**  
दुर्गा 776.7  
**बहुभुजाकार**  
बहुभुज 969.18  
**बहुभूमिक**  
बहुखंडीय 612.8  
**बहुभोग्या**  
वेश्या 807.5  
**बहुभोजी**  
अत्याहारी 182.15  
**बहुभंजरी**  
तुलसी 13.9  
**बहुभंजिला [बहुभंजिली]**  
बहुखंडीय 612.8  
**बहुभंजिला भवन**  
बहुखंडी भवन 602.21  
**बहुमत**  
बहुमत 343.5 ⇨  
बहुसंख्या 616.10  
**बहुमान्य**  
लोकमान्य 849 21  
**बहुमुखता**  
सर्वतोमुखता 29.8  
**बहुमुखी**  
विविध 310.8  
सर्वतोमुखी 29.29  
**बहुभूत्रता**  
भूत्राधिक्य 163.32  
**बहुभूर्ति**  
विष्णु 768.1  
**बहुभूल**  
सहजन 13.24

**बहुमूल्य**  
बहुमूल्य 664.31 ⇨  
संग्रहणीय 669.20  
**बहुमूल्य खनिज**  
बहुमूल्य खनिज 92.2 ⇨  
**बहुमूल्य गुर**  
बहुमूल्य गुर 517.5 ⇨  
**बहुमूल्यता:**  
बहुमूल्यता: 664.38 ⇨  
**बहुमूल्यता**  
बहुमूल्यता 664.11 ⇨  
**बहुमूल्य धातु**  
चाँदी सोना 95.1  
बहुमूल्य धातु 93.4 ⇨  
**बहुमूल्य धातु (दे. सोना चाँदी)**  
बहुमूल्य धातु 93.4  
**बहुमूल्य पत्थर**  
रत्न 96.1  
**बहुमूल्य परामर्श**  
बहुमूल्य गुर 517.5  
**बहुमूल्य रत्न**  
बहुमूल्य रत्न 96.3 ⇨  
**बहुरंग**  
बहुरंगा [बहुरंगी] 289 70  
**बहुरंगा [बहुरंगी]**  
बहुरंगा [बहुरंगी] 289.70 ⇨  
**बहुरंगापन**  
बहुरंगीयता 289.22  
**बहुरंगी**  
बहुरंगा [बहुरंगी] 289 70  
विविध 310.8  
सर्वतोमुखी 29.29  
**बहुरंगीयता**  
बहुरंगीयता 289.22 ⇨  
विविधता 310 3  
**बहुरंजित**  
बहुरंगा [बहुरंगी] 289.70  
**बहुरना**  
फिर आना 1093.10  
**बहुरस**  
रसपूर्ण 84.17  
**बहुराष्ट्रीय**  
अंतरराष्ट्रीय 35.8  
**बहुराष्ट्रीय कंपनी**  
अंतरराष्ट्रीय कंपनी 692.8  
**बहुरि**  
अनेकदा 73.6  
उपरांत 39.16  
पुनः 73.5  
**बहुरूप**  
अनेकाकार 967.15  
इत्ना 766 1  
विविध 310.8  
विष्णु 768 1  
शिव 767.1  
**बहुरूपक**  
लास्य 462.9

**बहुभुज**  
अनेकाकारता 967.4  
विविधता 310.3

**बहुभुजा**  
दुर्गा 776.7

**बहुभुजापिपा**  
अभिनेता 464.5

**बहुभुजापी**  
अनेकाकार 967.15  
छद्म देशी 589.17

**बहुभुरेता**  
ब्रह्मा 766.1

**बहुभुल**  
अत्यधिक 944.7  
अनेक 940.10  
सुलभ 943.10

**बहुभुलता**  
अत्यधिकता 944.2  
अधिकता 944.1  
समृद्धि 626.1  
सुलभता 943.2

**बहुभुला**  
इलायची 281.8  
गाय 127.10  
पौराणिक गाय सूची 127.11  
बहुला 774.56 ⇨

**बहुभुलित**  
वर्धित 979.20

**बहुभुलेखक**  
स्तरहीन बहुभुलेखक 448.3

**बहुभुवचन**  
शब्द वचन सूची 425.45

**बहुभुवर्ण**  
बहुवर्ण [बहुवर्णी] 289.70  
सर्वतोमुखी 29.29

**बहुभुविद**  
अनेक विषय विद्वान 319.9

**बहुभुविध**  
विविध 310.8

**बहुभुविध औक्तीजन**  
ओजोन 86.4

**बहुभुविधरतः**  
विविधरतः 310.11

**बहुभुविधता**  
विविधता 310.3

**बहुभुविध प्रयत्न**  
बहुविध प्रयत्न 489.3 ⇨

**बहुभुविध प्रयत्न करना**  
बहुविध प्रयत्न करना 489.8 ⇨

**बहुभुव्ययी**  
व्ययशील 644.22

**बहुभुव्यवसायिता**  
बहुव्यवसायिता 650.11 ⇨

**बहुभुव्यवसायी**  
बहुव्यवसायी 650.26 ⇨

**बहुभुव्रीहि**  
आहार संपन्न 626.13

**बहुभुराः**  
प्रायः 73.7  
विविधरतः 310.11

**बहुभुसुत**  
अनेक विषय विद्वान 319.9  
ख्यात 847.3  
प्रशंसित 841.29

**बहुभुसुत (शब्दार्थ)**  
मुहम्मद 791.20

**बहुभुसंख्य**  
बहुसंख्यक 616.28

**बहुभुसंख्यक**  
बहुसंख्यक 616.28 ⇨

**बहुभुसंख्या**  
बहुसंख्या 616.10 ⇨

**बहुभुसंभोगी**  
व्यभिचारी 806.10

**बहुभुसार**  
सघन 81.15

**बहुभुसू**  
बहुजननी 243.12

**बहुभुस्तरीय**  
बहुखंडीय 612.8

**बहुभुस्तरीयता**  
बहुखंडीयता 612.7

**बहुभुधवा**  
चीड़ 13.7

**बहुभुपत्नी**  
पत्नी 803.6

**बहुभुपुत्र**  
पुत्र वधू 724.24  
वधू 801.11

**बहुभुप्रसू**  
मादा सूअर 127.82

**बहुभुपेटित्री**  
परिवार स्त्रियाँ 726.10

**बहुभुपेटि**  
परिवार स्त्रियाँ 726.10

**बहुभुपेहंत**  
खादर 552.5

**बहुभुपुआपन**  
आवारागर्दी 1090.3

**बहुभुपुत**  
आवारागर्द 1090.43

**बहुभुपुलिया**  
पक्षी आखेटक 252.11

**बहुभुपुलियागीरी**  
पक्षी आखेट 252.10

**बहुभुपुल्ले**  
छोटी बैलगाड़ी 1071.43

**बहुभुपुल्लियत**  
परिस्थिति में 69.14

**बहुभुपुल्लियत**  
संबंधतः 715.14

**बहुभुपुल्लिरना**  
वापस देना 638.11

**बहुभुपुल्लिरि**  
पुनः 73.5  
पुनरागमन 1093.5

**बहुभुल**  
छंद 452.1

**बहुभुल नदी**  
बड़ी नदी 20.5  
समुद्र 24.1

**बहुभुल**  
समुद्रीय 24.23

**बहुभुल अरब**  
अरब सागर 24.14

**बहुभुल आजम**  
महा समुद्र 24.4

**बहुभुल जलमात**  
अतलातिक महासागर 24.13

**बहुभुल हिंद**  
हिंद महासागर 24.20

**बहुभुल कोण**  
कोण 970.1  
कोणयुक्त 970.12

**बहुभुल धनुष**  
धनुष 926.8  
नदी मोड़ 21.19

**बहुभुल बाँक**  
बाँक 924.15 ⇨  
मोड़ 974.10

**बहुभुल यीर**  
यीर 396.6  
शिकंजा 559.47

**बहुभुल बाँकड़ा**  
रणवीर 396.9  
वीर 396.6

**बहुभुल साहसी**  
साहसी 394.13

**बहुभुल बाँकरी**  
गोटा 571.37

**बहुभुल कोरी**  
आयुध 922.1  
शस्त्र 922.2

**बहुभुल नल**  
सुनार. फुँकनी 85.24

**बहुभुल बाँकपन**  
घघल 860.8  
बाँकपन 860.7 ⇨

**बहुभुल वक्रता**  
वक्रता 974.1  
सजघज 226.6

**बहुभुल सुंदरता**  
सुंदरता 157.1

**बहुभुल बाँकपना**  
बाँकपना 960.7

**बहुभुल बाँकड़ा**  
रणवीर 396.9  
शृंगार प्रेमी (पुरुष) 222.5

**बहुभुल बाँका [बाँकी]**  
कोणयुक्त 970.12  
घघल 860.24

**बहुभुल बाँका [बाँकी]**  
बाँका [बाँकी] 860.23 ⇨  
रस्तिक 837.18

**बहुभुल वक्र**  
वक्र 974.16  
वीर 396.6

**बहुभुल सजा घजा [सजी घजी]**  
सजा घजा [सजी घजी] 226.13

**बहुभुल साहसी**  
साहसी 394.13

**बहुभुल बाँकिया**  
नरसिंघा 461.60

**बहुभुल बाँकी**  
पुनः 73.5  
नरसिंघा 461.60

**बाँक**  
बाँक 924.15  
शृंगार प्रेमी (स्त्री) 222.6

**बाँकरी**  
गोटा 571.37

**बाँकुरा**  
रणवीर 396.9  
वीर 396.6

**बाँकुरा**  
वीर पुरुष 396.2

**बाँकुरा [बाँकुरी]**  
साहसी 394.13

**बाँग**  
आवाहन 1055.1  
कुकरू कूँ 298.10

**बाँग**  
बाम 125.9

**बाँगड़ा**  
बागर 552.7

**बाँगड़ा**  
मैकरल 125.10

**बाँगरी**  
हरियाणवी 421.16

**बाँगड़ा**  
हरियाणवी 421.16

**बाँगुर**  
पक्षी पारा 1013.11

**बाँगला**  
बांग्लादेश 27.11

**बाँगलादेश**  
बांग्लादेश दक्षेस सदस्य सूची 27.4  
बांग्लादेश 27.11 ⇨

**बाँगलादेश**  
भारत उपमहाद्वीप देश क्षेत्र सूची 27.6

**बाँगलादेशः राजधानी**  
बांग्लादेश राजधानी 27.12 ⇨

**बाँगलादेशी**  
बांग्लादेशीय 27.27

**बाँगलादेशीय**  
बांग्लादेशीय 27.27 ⇨

**बाँघक**  
वाचयिता 399.9

**बाँघन**  
संस्वर वाचन 399.8

**बाँघना**  
कथा वाचन करना 749.42  
पढ़ना 321.36

**बाँघने वाला**  
वाचयिता 399.9

**बाँघ**  
ओष्ठ कोर 143.4

**बाँघ**  
अनुर्वर (भूमि) 552.17  
वध्या 238.16

**बाँघपन**  
वध्याता 238.3

**बाँघ**  
उत्तराधिकार विभाजन 623.6  
खंड 938.1

**बाँघ**  
भाग कर्म 955.13

**बाँघ**  
वितरण 656.7

## बाँटना

विभाजन 699.3  
बाँटना  
दान देना 641 19  
भाग करना 955.22  
वितरित करना 656 15  
विभाजन करना 699 12

बाँटने वाला  
विभाजक 699 18

बाँड़  
बाँड़ 25.7 ⇨

बाँका [बाँकी]  
वंशजहीन 727 41

बाँदी  
दासी 651 10  
परिचारिका 651 29  
सेविका 651 26

बाँदू  
बैधुवा श्रमिक 643 19

बाँध  
बाँध 22.2 ⇨

बाँधना  
अनुशासित करना 893 9  
आसक्त करना 365 4  
गॉठ लगाना 573 11  
जोतना 1079 17  
नियत करना 68 12  
पिंडित करना 81 13  
पेक करना 1014 6  
प्रेमानुरक्त करना 368 14  
बदी बनाना 868 29  
बलात देना 638 10  
बाँधना 1013 17 ⇨  
लक्ष्य साधना 931 15  
लुब्ध करना 359 16  
वशीकरण करना 758 36  
व्यवस्थापित करना 893 8  
सम्मोहन करना 367 5  
स्तभन करना 758 37

बाँधनू  
दिशा स्वप्न 267 2  
मनोकल्पना 308 5  
मिथ्या आरोप 875 10  
योजना 520 1

बाँध पथ  
बाँध पथ 1066 11 ⇨

बाँधय  
स्वजन 725 1

बाँधवता  
रिश्तेदारी 715 5  
स्वजन भावना 725.2

बाँधव्य  
स्वजन भावना 725 2

बाँबी  
बाँबी 803 6 ⇨

बाँस  
गहराई माप 958.17  
डॉड़ 1073.5  
नलया 684.3

बम 1076 23  
बाँस 597.8 ⇨

लगगा 563 6  
लाठी 923 9  
वश 727 1

बाँस कील  
बाँस कील 1016.13 ⇨

बाँस छलौंग  
बाँस छलौंग 1086.11 ⇨

बाँस: छिलन  
खपच 938 10

बाँस: टट्टर  
चाली 1065 5

बाँस: तीली  
खपची 938 11

बाँस: नल  
हल. सेल 563.14

बाँस निर्यास  
बाँस निर्यास 84 10 ⇨

बाँस नीका  
डॉड़ नीका 1072 6

बाँस: पोला भाग  
बाँस. पोला भाग 597.9 ⇨

बाँस बेंत: टोकरा  
बाँस बेंत टोकरा 677.4 ⇨

बाँस बेंत: डलिया  
बाँस बेंत टोकरा 677 4

बाँस वन  
वशी वन 12 26

बाँसवारी  
वशी वन 12 26

बाँसा  
जलयान. पेदा 1073.32

नासा अस्थि 133 8  
रीड़ 133.14

हल सेल 563 14

बाँसुरी  
बाँसुरी 461 63 ⇨  
मंगल वाद्य सूची 796 12

बाँसुरी: तान  
वशी तान 458 16

बाँसुरी ध्वनि  
बाँसुरी ध्वनि 296.13 ⇨

बाँसुरी वादक  
बाँसुरी वादक 461.64 ⇨

बाँसुरी वाला  
कृष्ण 771 1

बाँसुरी वाला  
बाँसुरी वादक 461.64

बाँसुरी स्वर छिद्र  
बाँसुरी स्वर छिद्र 461 102 ⇨

बाँह  
आस्तीन 585.77

बाहु 149.6  
भुजा 149 5

शरण 910.4

बाँह: अस्थि  
बाँह: अस्थि 133.17 ⇨

बाँह पकड़ना  
विवाह करना 799.45

बाँही  
आस्तीन 585.77

बा  
माता 717 7  
विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856 6

बा-  
सहित. उपसर्ग सूची 1006 4

बाअवब  
करबद्ध 733 20

विनम्र 733 19  
विनम्रतः 733.23

सम्मानपूर्वक 854 24

बाअसर  
प्रभावशाली 511.17

बाआबल  
सम्मानपूर्वक 854 24

सम्मानित 854.19

बाईडर (अं)  
जित्द सूची 418 5

रग बंध्य 290.19

बाईडिंग (अं)  
अनुबंधकारी 339 33

जित्द 418 1

बाइ (अं)  
द्वारा प्रेषित 1054 18

बाइ एअर (अं)  
नभ मार्ग द्वारा प्रेषित 1054.22

हवाई डाक 444 24

बाइक (अं)  
साइकिल 1071.48

बाइ कूरियर (अं)  
वाहक द्वारा प्रेषित 1054.23

बाइफ्लियार  
अधिकारपूर्ण 897 14

बाइट  
बाइट 951.21 ⇨

बाइट (अं)  
बाइट 951.21

बाइनेरी सिस्टम (अं)  
द्वितीय लव प्रणाली 950 4

बाइपास करना  
बाहर से गुजरना 1097 13

बाइपासिंग  
बाइपासिंग 1097.8 ⇨

बाइपासिंग (अं)  
बाइपासिंग 1097.8

बाइ पोस्ट (अं)  
डाक द्वारा प्रेषित 1054.19

बाइबिल  
बाइबिल 739.8 ⇨

बाइरावा  
संकल्पपूर्वक 500.16

बाइ रोड (अं)  
मार्ग द्वारा प्रेषित 1054.20

बाइ-ला (अं)  
उपनियम 879.4

बाइलेन (अं)  
छोटी सड़क 1063.36

बाइसिकल (अं)  
साइकिल 1071 48

बाइ सी (अं)  
जल मार्ग द्वारा प्रेषित 1054 21

बाइस्कोप (अं)  
फ़िल्म 472.1

बाइ ईड (अं)  
हस्त द्वारा प्रेषित 1054.24

बाई और  
बाएँ 1098 31

बाई तरफ़  
बाएँ 1098 31

बाई पुतली  
बाई पुतली 141.7 ⇨

बाई  
वायु 85 1

संधिवात 163 23  
स्त्री उपाधि सूची 856 4

बाई जी  
वेश्या 807 5

बाईमान  
ईमानदार 815 7

न्यायपूर्वक 874.39

बाईमानी  
ईमानदारी 815 2

बाईसा  
विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.6

बाउंड (अं)  
जित्दबद्ध 418 14

बाउंडरी (अं)  
परिसीमा 1001 8

बाउ  
वायु 85 1

बाउम्बी  
आशापूर्वक 375.11

बाउल  
पूजा गीत सूची 749.28

बाउल 457.36 ⇨  
बाउल 790.4 ⇨

बाउलर (अं)  
गेंदबाज़ 475.14

बाएँ  
बाएँ 1098.31 ⇨

बाएँ बाएँ  
दक्षिण वाम पार्श्व में 997.24

बाएँ बाहिने  
दक्षिण वाम पार्श्व में 997.24

बाएँ बाजू  
बाएँ 1098.31

बाएँ से बाहिने काट  
पढ़ी काट 543.4

बाएँ हथ्य का खेल  
सहज कार्य 518.2

बाएँ हथ्य से  
सहजतः 518.24



बाएँ हाथ से कर सकना	बाग पकड़ाई	बाज़ारगत	पारी 70.9
बाएँ हाथ से कर सकना 487.18 ⇐	बाग पकड़ाई 800.29 ⇐	पुनरागमन 1093.5	बाजी
बाकला	बाग बाग	बाज़ गिद्ध	बकी बहन 723.10
दलहन सूची 188 7	अति आनंदित 382 20	बाज़ गिद्ध 126.29 ⇐	बाज़ी
बाक्रायदगी	बागबाग	बाज़ दावा	बाज़ी 475.9 ⇐
नियमानुकूलता 879.9	उपवन कर्मी 12 28	स्वत्व परित्याग 622.18	शोबदा 473 28
नियमितता 71.2	बागबानी	बाज़ रखना	बाज़ीगर
बाक्रायदा	उपवन कर्म 12 27	अनुमति न देना 338 19	कलाबाज़ 1086.15
नियमानुकूलता 879.24	बागर	निषिद्ध करना 880.6	बाज़ीगर 473.18 ⇐
नियमितता 71 23	बागर 552.7 ⇐	बाजर	बाज़ीगर: गोटी
विधिपूर्वक 514 19	मरुथल 11 11	अनाज सूची 187 6	बाज़ीगर: गोटी 473.20 ⇐
बाक्री	बागरबाज़	बाजरा 187.16 ⇐	बाज़ीगर: पेटी
अवशिष्ट 954 17	प्रयोजनतः 508 11	बाजरी	बाज़ीगर: पेटी 473.19 ⇐
असमाप्त (कार्य) 523 6	प्रयोजनार्थी 508 7	बाजरा 187 16	बाज़ीगरी
अस्तित्वशाली 246 11	बागान	बाजा	बाज़ीगरी 473 17 ⇐
घटान कर्म 954 6	चाय बाग 551 6	वाद्ययंत्र 461 11	बाजू
घटान फल 954 9	प्लान्टेशन 551.5	बाजा गाजा	आयाम 964.1
भुगतान शेष 639 2	बागी	आनंद मंगल 382 3	करवट 1027 4
बाक्रीदार	राष्ट्र द्रोही 827 21	बाजागाजा	चीखटः पार्श्व काष्ठ 809.4
भुगतान अकर्ता 639 18	विद्रोही 903 18	उत्सवपूर्णता 56 2	दिशा 29.1
बाक्रीदारी	सत्ता विरोधी 902 28	मंगल वाद्य घनि 796 10	पंख 151 1
अभुगतान 639.1	बागी (बंधल घाटी)	बाजावादा	पार्श्व 997.1
बाक्री भाग	डकेत 864.20	नियमिततः 71 23	पार्श्व भाग 997 5
शोषाश 954 10	बागीघा	विधिपूर्वक 514 19	बाहु 149 6
बाकी होना	उपवन 12 11	बाजापक्रा	भुजा 149.5
समाप्त न होना 523 4	बागे अवन	स्वादयुक्त 275 15	हस्ताश्रय 596.23
बाकुधि	बागे अवन 259.3 ⇐	बाज़ार	बाजू का
ग्यार 189.18	बागे विहिरत	बाज़ार 663.1 ⇐	पार्श्व भागीय 997 19
बाकस	विहिरत 259 2	मंडी 663 8	बाजूबंद
डिब्बा 676 1	बाध	महल्ला 618 6	बाजूबंद 228.20 ⇐
बाकस (अं)	बाध 127 55 ⇐	मेला बाज़ार 663 10	बाजू बाला
संदूक 676 15	बाधना	वेरया महल्ला 807 12	पार्श्व भागीय 997 19
बाखर	पठना 321 36	शहरी सड़क 1063 37	बाजे बाला
गोशाला 603 24	बाछ	बाज़ार धीला	वाटक 461.2
बाग	छँटाई 1009 6	शोपिंग बैग 673 10	बाज़ीक
आश्रम 745 2	बाछना	बाज़ार भार पद्धति	कलापूर्ण 402 3
उपवन 12 11	छाँटना 1009 15	माल भार पद्धति 962 61	बाज़ीक
फल उपवन 12 13	बाछा	बाज़ार भाव	कला प्रेमी 400.17
बाग	गाय. बछड़ा 230 14	प्रचलित मूल्य 664 3	बाज़ीकी
बाग पकड़ाई 800.29	बालक 230.23	बाज़ार में	कलापूर्णता 402.1
बाग	बाछा [बाछी]	अगुप्ततः 822 34	बाट
महल्ला 619.6	पशु: शिशु 230.11	बाज़ारी	पगडंडी 1063.47
बाग	शिशु 230.3	बाज़ारी 663.20 ⇐	बाट 962.27 ⇐
लगाम 555.17	बाछी	बाज़ारी भाषा	मार्ग 1063 1
बाग की सैर	गाय: बछिया 230.15	अपभाषा 433.2	सिल: बट्टा 560.19
उपवन वायु सेवन 1085.5	बाछे खिलना	बाज़ारक	बाट देखना
बागड़	प्रसन्न होना 381.4	असभ्य 734 14	प्रतीक्षा करना 1057.5
मरुथल 11.11	बाज	बाज़ारी 663.20	बाटना
बागडोर	अतिरिक्त 945.4	व्यापारिकतापूर्ण 657.17	घोटना 540 11
नियंत्रण: उपमान सूची 899.27	बाज़	सामान्य 311.3	बाट माप
लगाम 555.17	कोई 316.7	बाज़ारक औरत	भार माप 962.1
शासन 890.1	गिद्ध 126.26	वेरया 807.5	बाटली
शासन सूत्र 890.4	बाज़ गिद्ध 126.29	बाज़ी	बोतल 678.1
बागडोर सँभालना	बाज	खेल प्रदर्शन 473.2	बाटी
शासन करना 890.17	वाद्ययंत्र 461.11	धुनीली 917.1	कटोरी 683.6
सत्तापोहण करना 899.22	बाज़ आना	तास प्राप्तक 475.34	गोटी 479.1
बाग बीवार	निषिद्ध काम छोड़ना 880 7	दौब 481.17	तसला 685.9
उपवन परकोटा 804.13		दौब: वस्तु 481.18	बाटी 202.17 ⇐

## बाइ

लोई 195.15  
**बाइ**  
 टोप टोपी बाइ 584.22  
 डंडा परकोटा 604.12  
 नाका 1064 9  
 बाइ 804.10 ⇨  
**बाइब**  
 बइबा दीप्ति 287 18  
**बाइबा**  
 अहाता 804.3  
 कौजी हाउस 603.22  
 डंडा परकोटा 604.12  
 नाका 1064 9  
 पशुशाला 603.19  
 महल्ला 619.6  
**बाइबी**  
 उपवन 12 11  
 गृह 601 1  
 फल उपवन 12.13  
 भवन 602.7  
**बाइब**  
 अत्यधिकता 944.2  
 उत्थान 1030.1  
 कोर 1000 2  
 छोर 1000.3  
 जल प्रलय 530 2  
 प्रबल आक्रमण 914 7  
 प्रसार 979 3  
 फला 270.9  
 बइबी छत 611.19  
 बाइ 22.1 ⇨  
 वृद्धि 979 4  
**बाइ (बै.)**  
 उडलाव 1032 4  
**बाइग्रस्त**  
 बाइग्रस्त 22.6 ⇨  
**बाइ निकास**  
 बाइ निकास 23.2 ⇨  
**बाइ निकास नाला**  
 बाइ निकास नाला 23.11 ⇨  
**बाइ प्रणालिका**  
 बाइ निकास नाला 23.11  
**बाइहीन भूमि**  
 बागर 552 7  
**बाइकाकांत**  
 बाइग्रस्त 22 6  
**बाइ बिट्टी**  
 खादर 552.5  
**बाइबान**  
 सान करने वाला 584.8  
**बाण**  
 असुर सूची 783 8  
 दानव सूची 783 13  
 दैत्य सूची 783.19  
 पीछे उपमान सूची 948.26  
 बाण 926.16 ⇨  
 मूँज 568 1  
 लक्ष्य 931.1

**बाणः अग्रभाग**  
 बाणः अग्रभाग 926.18 ⇨  
**बाणधि**  
 तरकस 926.22  
**बाणः नोक**  
 बाणः अग्रभाग 926.18  
**बाणः पंख**  
 बाणः पंख 926.20 ⇨  
**बाण पुंजा**  
 बाण अग्रभाग 926 18  
**बाणः पृष्ठभाग**  
 बाणः पृष्ठभाग 926.19 ⇨  
**बाणः फल**  
 बाणः फल 926.21 ⇨  
**बाण लिंग**  
 नर्मदेशवर बटी 938.46  
**बाण विद्या**  
 धनुर्विद्या 907.29  
 धनुर्वेद 740.38  
**बाण शय्या**  
 बाण शय्या 594.4 ⇨  
**बाणहा**  
 विष्णु 768.1  
**बाणाग्र**  
 बाणः अग्रभाग 926.18  
**बाणाध्यक्ष**  
 शिय 767.1  
**बाणाभय**  
 तरकस 926.22  
**बाणासन**  
 धनुष 926.8  
**बाणासुरः जामाता**  
 अनिरुद्ध 771.34  
**बाणी**  
 उक्ति 434.1  
**बात**  
 अनुबंध 339.1  
 आज्ञा 347 1  
 आन 349.3  
 उक्ति 434 1  
 उपदेश 430.9  
 घटना 75 1  
 घर्षा 436 1  
 परामर्श 332.1  
 परिस्थिति 69.5  
 प्रसंग 437 1  
 बहाना (मकर) 495.4  
 महानता 839.1  
 मूल तथ्य 820.16  
 यद्यन 339 15  
 वार्तालाप 435 1  
 विवाह प्रस्ताव 799.29  
 सूत्राय 332 5  
**बात उठाना**  
 प्रसंग छेड़ना 437.9  
**बात कटाई**  
 कृताकलामी 435.2

**बात करना**  
 वार्तालाप करना 435.16  
**बात कहना**  
 कहना 430.11  
**बात काटना**  
 अपलाप करना 435.22  
 कृताकलामी करना 435.18  
**बात का धनी**  
 दृढ़प्रतिज्ञा 339.45  
**बात का पक्का**  
 दृढ़प्रतिज्ञा 339 45  
**बात के बीच में बोलना**  
 कृताकलामी करना 435.18  
**बात खोलना**  
 रहस्य खोलना 822.16  
**बात गढ़ना**  
 सत्य अपलाप करना 821.15  
**बात चलना**  
 विवाह प्रस्ताव आना 799.49  
**बात चली है तो**  
 संदर्भवश 437.17  
**बातचीत**  
 नाटक संवाद 465 1  
 परक्रामण 658 8  
 परिचर्चा 436 3  
 भेंटवार्ता 436.5  
 वार्तालाप 435.1  
 विवाह प्रस्ताव 799.29  
**बातचीत करना**  
 भेंटवार्ता करना 436.8  
 वार्तालाप करना 435.16  
**बात तोड़ना भरोड़ना**  
 कुतर्क करना 325.19  
**बात बनाई**  
 सत्य अपलाप 821.6  
**बात बनाना**  
 सत्य अपलाप करना 821.15  
**बात बात में**  
 संदर्भवश 437.17  
**बात मानना**  
 आज्ञा पालन करना 347.11  
**बातरतीब**  
 क्रमशः 991 28  
**बातरतीबी**  
 क्रमिकता 991.2  
**बातर्रीक्षा**  
 व्यवस्थिततः 893 17  
**बात से फिरना**  
 मुकरना 338.25  
**बातिक**  
 बातिक 578.6 ⇨  
**बातिल**  
 असत्यतापूर्ण 821.16  
 बातिल 338.44 ⇨  
**बातिलकरण**  
 बातिलकरण 338.12 ⇨  
**बातिल करना**  
 बातिल करना 338.27 ⇨

**बातिलपरस्त**  
 गैरमुसलिम 736.3  
**बाती**  
 दीपक वाली 285.17  
 बत्ती 568.8  
**बातीः सुलगता तिरा**  
 गुल 106.14  
**बातूनी**  
 बहिरभिमुखी 837.15  
 बातूनी 435.28 ⇨  
**बातूनीपन**  
 बहिरभिमुखता 837 6  
 बातूनीपन 435 7 ⇨  
**बाथ (अँ)**  
 डोब 1031.12  
**बाथरूम (अँ)**  
 स्नानागार 221.17  
**बाथू**  
 बथुआ 189.28  
**बाव**  
 उत्तर काल में 60.17  
 उपरांत 39.16  
 पुनः 73.5  
 वायु 85.1  
 सचल वायु 85.4  
**बावकश**  
 धौकनी 85.25  
**बाव का**  
 अंतिम 995.11  
 अधोलिखित 430.22  
 उत्तर कालीन 60.13  
 पछेती 62.22  
 समयोपरांत 62.16  
**बाव का काल**  
 उत्तर काल 60.5  
**बावगीर**  
 खिड़की 608.17  
 वातायन 608.14  
**बावजान**  
 बँगन 189.29  
**बावनुमा**  
 हवाई मुरगा 85.34  
**बावबान**  
 पाल 1073.10  
**बावबानी**  
 नीका सूची 1072.3  
 पाल नीका 1072.9  
**बाद में**  
 अनिकट भविष्य में 36.36  
**बाद में**  
 उत्तर काल में 60.17  
 उस के उपरांत 39.20  
**बाद में**  
 विलंबतः 495.16  
**बाद में**  
 समयोपरांततः 62.25  
**बाद में होना**  
 समय के बाद होना 62.12

बादर  
दक्षिणावर्त शंख 461 79  
सूती 588 15  
बादरा  
कपास 588 4  
बादरायण  
वेद व्यास 789 21  
बादरायण संबंध  
दुरारुद्र कल्पना 308 4  
दूर का संदर्भ 437 4  
बादरायण सूत्र  
ब्रह्म सूत्र 740 45  
बादल  
मेघ 55 1  
बादला  
जरबफ्त 580 12  
ज़री 569 13  
विनिमय 836 3  
सलमा 571 49  
बादशाह  
राजा 882 6  
सम्राट 882 24  
बादशाह [बैगम]  
रज [रबी] फ़क़म (क़स) सूफ़ी 882 10  
बादशाहज़ादा  
राजकुमार 882 20  
बादशाहज़ादी  
राजकुमारी 882 21  
बादशाहत  
राजा पद 882 8  
स्वेच्छापूर्णता 850 6  
बादशाहाना  
स्वच्छेधारितापूर्ण 809 6  
बादशाही  
राजतंत्रवाद 884 10  
राजतंत्रात्मक 881 39  
राज वैभवशाली 226 17  
राजा योग्य 882 35  
बादायम  
गुठली बीजली 112 4  
तिहलन सूधी 196 14  
बादायम 191 10 ⇨  
मेवा सूधी 191 2  
बादायी  
रत्न मजूबा 676 5  
बादी  
बादी 163 24 ⇨  
बाध  
मूँज डोरी 570 2  
बाधक  
अवरोधक 1047 28  
अवरोधात्मक 1047 26  
बाधकता  
अवरोधकता 1047 10  
बाधक मनोवृत्ति  
अवरोधकता 1047 10  
बाधन  
उत्पीड़न 391.10

बाधना  
प्रतिरोध 915 1  
बाधा  
अनुपयुक्त अवसर 70 4  
अवरोध 1047 P  
प्रतिरोध 1047 2  
ध्यान विघ्न 331 5  
निषेध 880 1  
प्रतिरोध 915 1  
भूत बाधा 759 7  
विलंब 495 1  
हस्तक्षेप 1047 13  
बाधाप्रस्त  
अवरुद्ध 1047 27  
बाधाप्रस्तता  
गति रुद्धता 1047 3  
बाधा डालना  
अवरुद्ध करना 1047 19  
हस्तक्षेप करना 1047 20  
बाधा दीड़  
बाधा दीड़ 484 9 ⇨  
बाधा निवारण  
संकट मोचन 910 1  
बाधा पड़ना  
अवरुद्ध होना 1047 18  
बाधाहीन  
अवरोधहीन 1049 13  
बाधाहीनतः  
अनिषिद्धत 880 15  
बाधाहीनता  
अवरोधहीनता 1049 4  
बाधित  
अवरुद्ध 1047 27  
विलंबित 495 11  
बाधितता  
गति रुद्धता 1047 3  
बाधिता  
अवरोधक 1047 28  
उत्पीड़क 391 29  
बाधी  
अपकार कर्ता 831 14  
उत्पीड़क 391 29  
बाध्य  
विश्व 901 11  
बाध्यता  
उत्तरदायित्व 895 3  
रुद्ध 353 11  
विश्वशता 901 3  
बान  
आदत 836 3  
आन 349 3  
कुव्यसन 812 7  
पुनकी बेलन 562 3  
बौकपन 860 7  
बाण 926 16  
मूँज डोरी 570 2  
शोभा 226 1  
सजधज 226 6

बानक बनना  
सयोगवशा होना 89 8  
बानगी  
आस्थादन 275 6  
आस्थाद्य पदार्थ 275 7  
ट्रेलर 472 8  
पूर्व झलक 520 12  
प्रथम प्रयोग 994 6  
बान तेल  
बान तेल 800 30 ⇨  
बानर  
बंदर 127 86  
वानर (मरुत) 781 5  
बानरी  
मादा बंदर 127 87  
वानर स्त्री 781 6  
बाना  
नाट्य वेश 464 38  
परिधान 583 1  
बाना 576 9 ⇨  
रंग 289 1  
वर्ण 731 2  
वर्ण धर्म 737 31  
वस्त्र चौड़ाई 579 20  
वेश 589 1  
बानात  
बनात 580 33  
बानिया  
व्यापारी वैश्य 731 26  
बानी  
उक्ति 434 1  
उत्प्रेरक 499 9  
कविता 451 16  
कारण 507 3  
पद्य 451  
वाघा 295 1  
संस्थापक 693 10  
सूक्ति 434 2  
बानैत  
धनुषधारी 930 13  
योद्धा 934 15  
बानो  
कुलीन स्त्री 728 7  
बाप  
पिता 717 4  
बापदादा  
गुरुजन समष्टि 722 1  
बाप दादा के ज़माने का  
प्राचीन 83 6  
बापदादे  
गुरुजन- समष्टि 722 1  
पूर्वज समष्टि 727 21  
बापदादी का मकान  
पैतृक घर 801 4  
बाप बेटा [बाप बेटा]  
पिता पुत्र [पिता पुत्री] 717 2  
बापा  
पिता 717 4

बापा बैर  
आनुवंशिक शत्रुता 706 4  
बापुरा [बापुरी]  
नगण्य 853 10  
विश्व 901 11  
साधनहीन 558 20  
बापू  
कुल देवता 772 24  
बापू (गुजरात)  
राजा 882 6  
बापू देवता  
कुल देवता 772 24  
बाब  
अध्याय 447 2  
सदर्म 437 3  
बाबत  
विषय 437 7  
विषयक 437 15  
सदर्म मे 437 18  
बाबा  
दादा 722 5  
पिता 717 4  
पीर 744 18  
वृद्ध पुरुष 232 4  
शिव 787 1  
शिशु 230 3  
संन्यासी 790 11  
साधु 790 16  
बाबा (मुंदेलखंड)  
खोक्रिया 800 8  
बाबा आदम  
आदम 236 15  
बाबा आदम का ज़माना  
प्रागितिहासिक काल 76 4  
बाबा आदम के ज़माने का  
सुदूर भूत कालीन 36 20  
बाबा जी भभुतिया  
भभूत धारी साधु 790 20  
बाबा भोलैनाथ  
शिव 787 1  
बाबा लोग  
शिशु जन 230 2  
बाबुनियाद  
साधार 1019 15  
बाबुल  
पिता 717 4  
विदा गीत 796 28  
बाबू  
कुलीन पुरुष 728 6  
क्लर्क 652 36  
पुरुष उपाधि सूधी 856.2  
बका ज़मींदार 553 15  
रज [रबी] फ़क़म (क़स) सूफ़ी 882 10  
लिपिक 412 4  
बाभन  
भूमिहार शासन 731 17  
बाभ  
बाम 125 9 ⇨

## बाम (अँ)

वाम पार्श्व 997.8  
**बाम (अँ)**  
 मरहम 178.21  
**बामज़ा**  
 आनंदप्रद 382.18  
 रोघक 400.12  
**बामी**  
 बाँबी 603.6  
**बामुराव**  
 सफल 512.6  
**बामुरीवत**  
 निष्ठावान 826.9  
**बामीक्रा**  
 अवसरानुकूल 70.14  
**बाम्हन**  
 पडा 744.4  
 ब्राह्मण 731.13  
 रसोईदार 195.7  
**बाम्हनी**  
 बमनी छिपकली 123.8  
 ब्राह्मण स्त्री 731.14  
 रसोईदारिन 195.8  
**बाय**  
 वात रोग 163.22  
 वायु 85.1  
 सधिवात 163.23  
**बाय (अँ)**  
 परोस कर्मी सूची 183.21  
**बाय का दर्द**  
 संधिवात 163.23  
**बाय गोला**  
 अफारा 163.29  
**बायन**  
 उपवास: उपहार 748.16  
 बायन 183.26 ⇨  
**बायन: प्रतिदान**  
 बायन: प्रतिदान 183.27 ⇨  
**बायना**  
 उपवास: उपहार 748.16  
 बायन 183.26  
**बायलर**  
 बायलर 109.21 ⇨  
**बायलर (अँ)**  
 बायलर 109.21  
**बायस**  
 कारण 507.3  
**बायस्कूप (अँ)**  
 सिनेमा घर 471.11  
**बायीं**  
 तबला: बायीं 461.51  
**बायीं [बाईं]**  
 वाम पार्श्वीय 997.22  
**बायीं तबला**  
 तबला: बायीं 461.51  
**बायीं पार्श्व**  
 वाम पार्श्व 997.8  
**बायीं फुफ्फुस**  
 बायीं फुफ्फुस 146.4 ⇨

**बायीं भाग**  
 वाम पार्श्व 997.8  
**बायीं हाथ**  
 बायीं हाथ 149.4 ⇨  
**बायोगैस (अँ)**  
 गोबर गैस 110.3  
**बायोडाटा (अँ)**  
 पद आवेदन पत्र 653.5  
**बारंबार**  
 पुनः 73.5  
**बारंबारता**  
 पुनरावृत्तिता 73.2  
 पुनरावृत्ति 73.1  
**बार**  
 आवृत्ति 71.1  
 द्वार 608.1  
 पारी 70.9  
 फल 116.1  
 भार 963.1  
**-बार**  
 वर्षयिता 54.22  
**बार (अँ)**  
 घोड़ी 485.14  
 मद्यकक्ष 209.35  
**बारकश**  
 भार वाहक 1061.22  
**बारझाना**  
 माल गोदाम 670.22  
**बारगाह**  
 न्यायालय भवन 874.11  
 राजकी तबू 600.22  
**बारगीर**  
 घसियारा 556.12  
 भार वाहक 1061.22  
**बारजा**  
 छज्जा 611.27  
**बारदाना**  
 उपकरण 558.7  
 थैला 673.1  
 बरतन सैट 680.18  
 बारदाना 560.1 ⇨  
 रसद 656.10  
**बारदार**  
 फलयुक्त 116.11  
**बारना**  
 प्रहार बघाना 920.13  
 वारफेर करना 710.19  
**बारबरदार**  
 कुली 1061.4  
 भार वाहक 1061.22  
**बारबरदारी**  
 कुलीगिरी 1061.3  
**बार बार**  
 पुनः 73.5  
**बार बार कुबकी लगाना**  
 बार बार कुबकी लगाना 1031.22 ⇨  
**बार बार दोहराना**  
 रटना 356.14

**बार बार होना**  
 आवागमनग्रस्त होना 246.9  
**बार बार होने वाला**  
 आयुतिशील 71.9  
**बारमैन (अँ)**  
 मद्य द्राता 209.32  
**बार रूम (अँ)**  
 मद्यकक्ष 209.35  
**बारस**  
 द्वादशी 44.18  
**बारह**  
 बारह 948.42 ⇨  
 बारह: समुदाय 687.13  
**बारह आदित्य**  
 तैतीस देवता सूची 772.35  
**बारह आदित्य सूची**  
 बारह आदित्य सूची 777.4 ⇨  
**बारह: उपमान सूची**  
 बारह उपमान सूची 948.43 ⇨  
**बारहदरा**  
 बारहदरा 615.9 ⇨  
**बारहदरी**  
 चीकोर मंडप 600.9  
 दालान 615.5  
 बारहदरा 615.9  
 स्तंभ मंडप 600.13  
**बारह दर्जन**  
 एक सौ बवालीस, समुदाय 687.20  
**बारह पत्थर**  
 सेना छावनी 933.7  
 सेना छावनी उत्तरी सीमा 933.8  
**बारह पत्थर करना**  
 क्षेत्र निर्वासित करना 870.18  
**बारह बच्चों वाली**  
 मादा सुअर 127.82  
**बारहबानी**  
 खरा [खरी] 98.12  
 परिपूर्ण 313.14  
 पूर्णविद्य 318.5  
 शुद्ध स्वर्ण 95.5  
**बारह मसालों की चाट**  
 विविध सामग्री उपमान सूची 669.5  
**बारहमासी**  
 ऋतु कालातीत 51.18  
 सदाबहार वनस्पति 111.5  
**बारह वक्रात**  
 बारह वक्रात 57.50 ⇨  
**बारहवीं [बारहवीं]**  
 बारहवीं [बारहवीं] 948.98 ⇨  
**बारह: समुदाय**  
 बारह समुदाय 687.13 ⇨  
**बारहसिंगा**  
 बारहसिंगा 127.46 ⇨  
**बारहा**  
 पुनः 73.5  
**बारहों**  
 बरही 798.14

**बारा**  
 बारह 948.42  
**बारत**  
 बराती 801.7  
 वरयात्रा 800.43  
 संग्रह 669.2  
**बारत घर**  
 बरात घर 802.28  
**बारती**  
 बराती 801.7  
**बारतीदरी**  
 दोलान 615.5  
**बारानगीर**  
 छज्जा 611.27  
**बारानी**  
 बरसाती कोट 585.53  
 वर्षा कालीन 54.19  
 वर्षा सिंचित 548.56  
 वर्षात्पत्र 54.21  
**बारानी खेती**  
 वर्षासिंचित कृषि 548.17  
**बारायक्रात**  
 बारह वक्रात 57.50  
**बारिक**  
 बैरक 602.20  
**बारिज**  
 कौड़ी 124.15  
**बारिधि**  
 समुद्र 24.1  
**बारिश**  
 वर्षा 54.5  
 वर्षा काल 54.1  
**बारिश का मीसम**  
 वर्षा काल 54.1  
**बारिश होना**  
 वर्षा होना 54.17  
**बारिस्टर**  
 वकील 874.26  
**बारी**  
 आवृत्ति 71.1  
 खिड़की 808.17  
 गृह 801.1  
 छोटा द्वार 608.13  
 पारी 70.9  
 बंगला 602.13  
 बारी 70.8 ⇨  
**बारीक**  
 कनकना [कनकनी] (स्वर) 299.27  
 तीक्ष्ण 270.19  
 दुर्बोध 519.23  
**बारीक 965.13 ⇨**  
 रहस्यपूर्ण 823.13  
 संकीर्ण 980.29  
**बारीक अर्थ**  
 सूक्ष्म अर्थ 426.10  
**बारीक बात**  
 मूल तथ्य 820.16

बारीक़ी  
असौध्याता 519.7  
असामान्यता 312.1  
कूटता 823.2  
बारीक़ी 865.9 ⇨  
सूक्ष्मता 980.2  
बारीक़ी से  
सूक्ष्मता: 426.42  
बारी क्रम  
व्यु क्रम 991.9  
बारी पर  
बारी से 70.18  
बारी बारी  
व्युबद्धता: 991.32  
बारी से 70.18  
बारी बारी से  
बारी से 70.18  
बारी से  
व्युबद्धता: 991.32  
नियमितता: 71.23  
बारी से 70.18 ⇨  
बालुब  
बालुब 927.20 ⇨  
बालुब कुप्पी  
बालुब कुप्पी 678.11 ⇨  
बालुब खाना  
बालुब घर 929.5  
बालुब गोला  
बालुब गोला 927.11 ⇨  
बालुब घर  
बालुब घर 929.5 ⇨  
बालुब: पलीला  
बालुब पलीला 927.21 ⇨  
बालुब से खोदना  
बालुब से खोदना 1018.14 ⇨  
बालुबा करना  
रेतना 542.11  
बालुबी अस्त्र  
आग्नेयास्त्र 927.1  
बालुबी सुरंग  
बालुबी सुरंग 927.23 ⇨  
बारे  
अंतरता: 995.17  
किन्तु 507.16  
बारेक  
एकदा 72.6  
बारेज  
बारेज 22.3 ⇨  
बारेज (अं)  
बारेज 22.3  
बारे में  
संदर्भ में 437.16  
बारोज़गार  
आजीविकायुक्त 650.18  
बार्क (अं)  
नौका सूची 1072.3  
बार्ज  
बार्ज 1072.36 ⇨

बार्ज (अं)  
बार्ज 1072.36  
बार्टर (अं)  
वस्तु विनिमय 636.5  
बार्टर ट्रेड (अं)  
विनिमय व्यापार 657.6  
बार्डर (अं)  
किनारी 571.34  
बार्डेक्यूबिंग (अं)  
प्रिंटिंग 195.24  
बार्स (अं)  
घोड़ी 485.14  
बार्डब्रथ  
जरासंध 771.58  
बार्डस्पत्य राशि काल  
पौष वर्ष 42.21  
बार्डस्पत्य वर्ष  
बार्डस्पत्य वर्ष 42.12 ⇨  
बाल  
अनाज: बाल 113.8  
केश 137.1  
पशु रोम 135.3  
पोता पोती 722.13  
बालक 230.23  
बीज समूह 112.9  
रोआँ 569.4  
विदर 544.4  
शरीर रोम 135.1  
बाल (अं)  
गेंद 479.9  
बिलियर्ड गोली 479.6  
बाल अवस्था  
जीवन: चार अवस्था सूची 229.17  
बाल अवस्था 230.21 ⇨  
बाल आना  
तड़कना 544.14  
बाल उतरवाई  
केश मुंडन 224.5  
बालक  
बालक 230.23 ⇨  
संतान 718.1  
बालक [बालिका]  
शिशु 230.3  
बाल कटाई  
केश कर्तन 224.3  
बाल कफ़ाई  
केश संवरण 223.4  
बालकता  
बाल अवस्था 230.21  
बाल कथा  
बाल कथा 450.5 ⇨  
बालकनी (अं)  
दर्शक: बालकनी 471.7  
बालक बारे  
संतान समष्टि 718.2  
बाल कांड  
रामचरित मानस. कांड 770.16  
बालीकि रनावप: कांड सूची 770.14

बाल काल  
बाल अवस्था 230.21  
बाल की खाल निकालना  
वितंडा करना 324.20  
बालकृष्ण  
बालकृष्ण 771.4 ⇨  
बालकृष्ण भक्ति  
वात्सल्य भाव 752.17  
बालकेश्वर  
बालकृष्ण 771.4  
बाल क्रीडनक  
खिलीना 480.1  
बाल गोपाल  
संतान समष्टि 718.2  
बाल गोविंद  
बालकृष्ण 771.4  
बाल प्रथि  
गलप्रथि 132.10  
बाल चंद्र  
अर्ध चंद्रमा 8.6  
बालचर्या  
पालन पोषण 720.1  
बालप्रजात  
स्वादयुक्त 275.15  
बालटी  
डोल सूची 679.34  
बालटी 679.37 ⇨  
बाल तंत्र  
प्रसूति कर्म 244.4  
बालता  
बालवत्ता 230.22  
बालबार  
रोएँदार 569.31  
बाल विवस  
बाल दिव. 7 58.14 ⇨  
बालधन  
बालधन 623.5 ⇨  
बाल धुलाई  
केश प्रक्षालन 223.2  
बालना  
आग जलाना 107.10  
दीप जलाना 285.40  
बाल नुबा [बाल नुची]  
केश लुंघित 798.45  
बाल नुचाई  
केश लुंघन 798.19  
बाल: नोक  
बाल: नोक 113.9 ⇨  
बाल पकना  
वृद्ध होना 232.7  
बाल पकना  
तड़कना 544.14  
बालपन  
बाल अवस्था 230.21  
बाल परिधान  
शिशु परिधान 583.12  
बालपण्डित पैर (अं)  
बालपेन 416.14

बालपेन  
बालपेन 416.14 ⇨  
बालपेन (अं)  
बालपेन 416.14  
बालपेन रीकिल  
बालपेन रीकिल 416.15 ⇨  
बालपेन रीकिल (अं)  
बालपेन रीकिल 416.15  
बाल पोथी  
वर्णमाला पुस्तक 322.3  
बाल प्रेम  
वात्सल्य 721.1  
वात्सल्य रस 455.17  
बाल प्रीक  
अकाल वयस्क 229.23  
बाल क्लिन्न  
बाल क्लिन्न 472.6 ⇨  
बालबच्छे  
परिहार जन 728.9  
लघुजन समष्टि 722.2  
संतान समष्टि 718.2  
बालबिम्बे पालना  
गृहस्थी पालना 235.9  
बालबन्धी बाला  
संतानवान 239.9  
बालबन्धी वाली  
संतानवती 239.10  
बाल बीयरिंग (अं)  
बाल बेयरिंग 1077.22  
बाल बुद्धि  
बालवत्ता 230.22  
बाल बेयरिंग  
बाल बेयरिंग 1077.22 ⇨  
बाल बोधिनी  
वर्णमाला पुस्तक 322.3  
बाल ब्रह्मचारिणी  
अविवाहिता 234.14  
बाल ब्रह्मचारी  
कुमार 234.16  
बाल ब्रह्मचारी 234.6 ⇨  
बालम  
पति 803.5  
प्रेमी 368.2  
बालमा  
प्रेमी 368.2  
बाल मित्र  
बाल मित्र 705.12 ⇨  
बाल मित्रता  
बाल मित्रता 705.11 ⇨  
बाल रैगाई  
केश रंजन 223.3  
बाल राज  
लहसुनिया 96.25  
बालवत्  
बालवत् 230.33 ⇨  
बालवत्ता  
बालवत्ता 230.22 ⇨

## बाल वृद्धता

### बाल वृद्धता

- सठियायापन 353.13  
बाल शिक्षालय  
बाल शिक्षालय 321.10 ⇨  
बाल संघ्या  
गोधुलि बेला 47.12  
बाल सखा  
बाल मित्र 705.12  
बाल सखी  
बाल सखी 705.13 ⇨  
बाल: सभूह  
लट 223.15  
बालसुलभ  
बालवत 230.33  
बालसुलभता  
बालवता 230.22  
बाला  
उच्च 982.7  
उत्तम 313.13  
किशोरी 230.29  
नवयुवती 231.3  
बालिका 230.24  
महान 839.8  
लरुकी 230.26  
बोडरी 231.5  
बाला [बाली]  
शिरु 230.3  
सरल 817.8  
बालाई  
उच्च 982.7  
उच्च भाग 982.5  
उत्तलीय 985.16  
मलाई 198.5  
बालाए ताक  
विलासतः 1011.7  
बाला कुम्भी  
क्रेन 1062.14  
ईपिट 1073.29  
बालाघाना  
छतः कक्ष 614.23  
बाला जी  
तिरुपति अवतार 789.10  
बाला जी विश्वनाथ  
तिरुपति अवतार 789.10  
बालापन  
बाल अवस्था 230.21  
बालवता 230.22  
बालापौरा  
अंगरखा सूची 585.29  
पलंग घादर 593.33  
बालाबांद  
पगड़ी. सिरपेच 584.26  
बाल बाला  
बाहर बाहर 999.20  
बालिंग (अं)  
गंद प्रक्षेपण 1052.6  
बालि  
बाली 781.13

### बालिका

- बालिका 230.24 ⇨  
लरुकी 230.26  
बालिया  
वयस्क 229.21  
बालिया अवस्था  
वयस्कता 229.13  
बालि वध  
रामलीला प्रसंग सूची 57.13  
बालिया  
अनुभवहीन सरल 817.9  
अवयस्क 229.22  
बालिरत  
बालिरत 150.5 ⇨  
बालिरत 959.14 ⇨  
बालिरितया  
बहुत ठिगना 154.19  
बालिस  
बैलास्ट 1061.10  
बालिस्टिक मिसाइल (अं)  
प्रक्षेपास्त्र 927.18  
बाली  
सिरहाना 594.20  
बाली  
अनाज बाल 113.8  
तकिया 593.63  
बाली 228.21 ⇨  
बाली 781.13 ⇨  
मंजरी 115.10  
वानर सूची 781.7  
बाली कुमार  
अगद (वानर) 781.8  
बाली: पत्नी  
बाली. पत्नी 781.14 ⇨  
बाली: राजधानी  
बाली. राजधानी 781.16 ⇨  
बाली: राज्य  
बाली: राज्य 781.15 ⇨  
बाली: श्वसुर  
सुबेण 781.18  
बालीसुत  
अगद (वानर) 781.8  
बालीहता  
राम 770.1  
बालुका  
रेत 100.1  
बालुकारम  
बलुआ पत्थर 99.5  
बालु रेत  
रेत 100.1  
बालु  
रेत 100.1  
बालु की घड़ी  
रेतघड़ी 50.18  
बालु की भीत  
अत्य कालीनता. उक्ति सूची 38.9  
बालु तट  
बालु तट 25.18 ⇨

### बालुवार

- रेतीला [रेतीली] 100.23  
बालु बोरी प्राचीर  
बालु बोरी प्राचीर 604.18 ⇨  
बालु रेत  
रेत 100.1  
बालुराही  
बालुराही 203.28 ⇨  
बालेंदु  
अर्थ चंद्रमा 8.6  
बालेय  
बलि विषयक 754.20  
बालेश्वर  
बालकृष्ण 771.4  
बालोधित  
बालवत 230.33  
बालोधितता  
बालवता 230.22  
बालोपयोगी फ़िल्म  
बाल फ़िल्म 472.6  
बालु  
काबला 1016.24  
बाल्मीकी  
वाल्मीकि 789.19  
बाल्य  
बाल अवस्था 230.21  
बाल्य अवस्था  
बाल अवस्था 230.21  
बाल्य काल  
बाल अवस्था 230.21  
बायजूद  
यद्यपि 507.14  
बायटा  
ध्वजा 408.4  
बायड़ी  
बायड़ी 19.10 ⇨  
बायन गज़ा [बायन गज़ी]  
दैत्यकाय 154.24  
बायन बीर  
बुद्धिमान व्यक्ति 301.6  
महायोद्धा 934.20  
महावीर 396.6  
बायक़ा  
निष्ठावान 826.9  
प्रतिज्ञा पालक 339.47  
सत्तानिष्ठ 826.11  
बायभक्त  
वातोन्माद 354.11  
बाबरची  
रसोईदार 195.7  
बाबरची छाना  
रसोई घर 195.1  
बाबरची घर  
रसोई घर 195.1  
बाबरा [बाबरी]  
पागल 354.24  
बाबल  
पागल व्यक्ति 354.15

### बाबला [बाबली]

- पागल 354.24  
बाबलापन  
पागलपन 354.14  
वातोन्माद 354.11  
बाबली  
बाबड़ी 19.10  
बायी  
बायी 126.57  
बाबैला  
आर्तनाद 386.3  
कोलाहल 294.8  
बाशकर  
शिष्ट 733.18  
शिष्टतः 733.22  
सभ्य 733.13  
बाशिबगी  
आयासिता 883.3  
निवासिता 616.1  
मूल निवास 618.3  
बाशिदा  
आवासी 883.7  
निवासी 616.13  
मूल आवासी 618.27  
बासंती  
वसंत कालीन 52.3  
बास  
गंध 273.3  
दुर्गंध 273.5  
बासन  
बरतन 680.1  
बासन भींडे  
बरतन 680.1  
बासना  
सुगंधित करना 274.30  
बासमती  
धान सूची 187.12  
बास मारना  
दुर्गंध फैलाना 273.9  
बासर  
अहोरात्र 46.10  
सप्ताहः बार 46.2  
बासरो सामान  
उपकरणयुक्त 558.21  
सामानयुक्त 666.11  
बासलीक़ा  
शिष्ट 733.18  
शिष्टतः 733.22  
सभ्य 733.13  
बासव  
इंद्र 773.5  
बासा  
अस्थायी स्थान 618.15  
गृह 601.1  
दुरिस्त लीज 1090.22  
लीजिंग हाउस 1090.32  
वस्त्र 579.1

बासाओ सामान	बाहर के रास्ते से	बाहरी घेरा	शिव 767 1
उपकरणयुक्त 558.21	बाहर बाहर 1097.24	बाहरी घेरा 972 7 ⇨	बाहोश
सामानयुक्त 666.11	बाहर छोड़े रहना	बाहरीपन	अमदोन्मत्त 211.16
बाशिहासिला	प्रवेश न करना 1094.20	बाह्यता 999.7	घेतनायुक्त 263.12
क्रमिक 991.21	बाहरगाँव	सीमांतरता 1001 24	लब्धयेता 263 13
बासी	बाहरगाँव 1022.9 ⇨	बाहरी मार्ग	बाहोशी
आवासी 883 7	बाहर जाना	रिंग रोड 1063.38	घेतना 263 4
बासी 197.45 ⇨	निकलना 1092 11	बाहरी रेखा	बाह्य
बुसा [बुसी] 197 46	प्रवास करना 618.19	बाह्य रेखा 968 11	आप्रवासी 618.30
मुक्त 363 13	बाहर निकलना	बाहु	इतर 945 5
प्लान 120 11	प्रोद्गत होना 988 7	बाहु 149.6 ⇨	उत्तलीय 985 16
बासी जलपान	बाहर निकला	भुजा 968 27	बाहर 999 19
प्रातः बासी उपाहार 200.3	प्रोद्गत 988.10	भुजा 149.5	बाह्य 999.15 ⇨
बासीमूँह	बाहर निकलाई	बाहुक	बाह्य आकारा
अनखाए 181 70	उद्देघन 1017 2	तेराक 483.2	अंतरिक्ष 2 3
अप्राप्तभोजन 181 52	बाहर निकला दांत	नकुल 771.68	बाह्य आडंबर
बासीधी	उदत 144.5	बाहु कवच	दिखावा 825 1
रबकी 203 31	बाहर निकलापन	बाहु कवच 921.8 ⇨	बाह्य इंग्रिय
बास्केट (अँ)	प्रोद्गतता 988 2	बाहुज	बहिरिंद्रिय 268 3
हथ्येदार टोकरी 677.7	बाहर निकालना	क्षत्रिय 731 19	बाह्य जगत ज्ञान
बास्केट	वमन करना 215 29	बाहुत्र	विज्ञान 307.1
हथ्येदार टोकरी 677.7	बाहर बाहर	बाहु कवच 921.8	बाह्यता
बास्केट (अँ)	बाहर बाहर 999.20 ⇨	बाहुभ्राण	बाह्यता 999.7 ⇨
उलिया 677 10	बाहर बाहर 1097.24 ⇨	बाहु कवच 921 8	सीमांतरता 1001.24
बास्केटबाल	बाहर बाहर से	बाहुदा	बाह्य द्वार
बास्केटबाल 477.10 ⇨	बाहर बाहर 1097 24	पीराणिक नदी सूची 20.23	मुख्य द्वार 608 7
बास्केटबाल (अँ)	बाहर भीतर	बाहुपाश	बाह्य भुजा माप
बास्केटबाल 477.10	अंदर बाहर 999.16	आलिंगन 237 8	सीमा माप 958 15
बाह	बाहर रहना	बाहुबंद	बाह्य रूप
हल कर्म 548 3	प्रवेश न करना 1094.20	बाहुबंद 228.20	बाह्य रूप 967 8 ⇨
बाहना	बाहरला [बाहरली]	बाहुबल	बाह्य रेखा
प्रक्षेपण करना 1052.14	बाह्य 999 15	परिश्रम 493 1	बाह्य रेखा 968.11 ⇨
भार वहन करना 1061 16	बाहर वाला	बाहुबल 160.3 ⇨	बाह्यवर्तितता
होकना 1079.19	इतर 945.5	वीरता 396 1	उत्तलीयता 965.3
बाहर	बाह्य 999.15	बाहुमूल	बाह्यवर्ती
अन्यत्र 30 9	बाहर वाला आँगन	स्कंध 147 3	उत्तलीय 985.16
उत्तल पर 985 19	बाहर वाला आँगन 604.5 ⇨	बाहुयुद्ध	बाह्य 999 15
दूरी पर 32 10	बाहर से	कुश्ती 486 7	बाह्यस्थ
निर्गम संकेत सूची 1092 20	बाहर बाहर 1097 24	बाहुयोधी	बाह्य 999 15
परदेश 34.11	बाहर से आ बसना: कर्म	कुश्तीबाज़ 486.9	बाह्य स्थान
प्रकटतः 822 33	आप्रवासन 618 5	बाहुल	सीमातर स्थान 1001.25
बाहर 999.19 ⇨	बाहर से गुज़रना	कार्तिक 2 14	बाह्य स्थिति
बाहरगाँव 1022.9	बाहर से गुज़रना 1097 13 ⇨	बाहु कवच 921.8	अप्रवेश 1094 10
विलगतः 1011.7	बाहर से चले जाना	बाहुलेय	बाह्याकारा यात्रा
शोध स्थान 216.17	प्रवेश न करना 1094 20	स्कंद 773 50	अंतरिक्ष यात्रा 1067 23
सीमांतर प्रदेश 1001.26	बाहर से पार गमन	बाहुल्य	बाह्यागमन
सीमांतर स्थान 1001.25	बाहुपासिंग 1097.8	अधिकता 944 1	सरक्रेसिंग 1080.13
सीमा के उस पार 1001.46	बाहर होना	बाहु विशेष	बाह्याधरण
बाहर आना	बाहर होना 999.9 ⇨	तेराकी स्ट्रोक 483 3	पाखंड 825.2
पनडुब्बी ऊपर आना 1080.39	बाहरी	बाहुवीर्य	बिंबः
बाहर करना	अघनिष्ठ 697 17	बाहुबल 160 3	विंदु घिहन 968 2
जाति निर्वासित करना 870.19	अस्वाभाविक 836.12	वीरता 396.1	माथा: विंदी 225.13
बाहर करना 999.10 ⇨	आप्रवासी 618.30	बाहुवीर्यता	सुन्य घिहन 948.14
बाहर का रास्ता	इतर 945.5	परिश्रमशीलता 493 2	बिंबाक्ष
निर्गम मार्ग 1092.3	उत्तलीय 985.16	बाहु व्यायाम	अलमस्त 382.23
बाहर की ओर	दिखावटी 825.5	उंड बैठक 485.8	निरिधत 378.8
निर्गम संकेत सूची 1092.20	बाह्य 999.15	बाहुशाली	बिंदासपन
		भीम 771.76	अलमस्ती 382.7

## विदिया

मिथितता 378.2

### विधिया

माथा: विदी 225.13

### विधी

अनुस्वार चिह्न 410.11

चित्र बिंदु 968.3

छोट बुंदकी 578.8

टिकली 977.12

धातु पिंड सूची 976.12

बिंदु 968.1

बिंदु: चिह्न 968.2

माथा: विदी 225.13

शुभ्य चिह्न 948.14

सुहाग चिह्न सूची 803.15

विधी: टिकली

विधी: टिकली 225.14 ⇨

### विदु

कण 938.2

केंद्र बिंदु 971.1

बिंदु 968.1 ⇨

बिंदु: चिह्न 968.2

बुंद 88.11

भ्रूमध्य 141.12

### विदु उत्कीर्णन

गुदाई 406.29

### विदुक

बिंदु: चिह्न 968.2

बुंद 88.11

### विदु: चिह्न

बिंदु: चिह्न 968.2 ⇨

### विदु तंत्र

पासा 479.21

### विदुत्व

आयामहीनता 964.3

### विदु भाष्य

विष्णु मूर्ति 746.6

### विदु रेखक

अनुस्वार 410.10

### विदुल

चित्र बिंदु 968.3

### विदुली

टिकली 977.12

माथा विदी 225.13

### विधना

छिदना 271.19

लक्ष्य वेध होना 931.16

### विधा [विधी]

अंतर्वेधित 271.22

कनछिदा [कनछिदी] 798.42

### विधाई

अंतर्वेधन 271.1

बरमा कर्म 564.5

### विध

काव्य विध 454.11

चित्र 404.1

पूर्व झलक 520.12

प्रतिविध 286.7

सादुर्य आभास 309.4

### विधक

प्रकाश परावर्तक 288.13

### विध विधान

विध विधान 454.12 ⇨

### विधिक

चंद्रमा प्रकाश मंडल 287.4

### विध

दो 948.19

### विधना

विधना 861.19 ⇨

लुब्ध होना 359.15

सम्बोधित होना 367.4

### विधल

आतुर प्रतीक्षक 1057.11

उद्दिग्ध 377.13

### विधलाई

उद्दिग्धता 377.4

### विधयाल

विक्रेता 861.2

### विधयाली

विक्रय 861.1

### विधा [विधी]

विक्रीत 861.21

### विधाक

विक्रयार्थ 861.23

### विधाना

विकना 861.19

लुब्ध होना 359.15

यशाहीन होना 901.5

सम्बोधित होना 367.4

### विकिनी

विकिनी 483.10 ⇨

### विकिनी (अ)

विकिनी 483.10

### विक्री

विक्रय 861.1

### विक्री कर

विक्री कर 647.13 ⇨

### विक्री का सामान

पण्य सामान 866.5

### विक्री दस्तावेज़

विक्री दस्तावेज़ 412.20 ⇨

### विक्री बही

विक्री बही 632.17 ⇨

### विक्री बिल

बिल 832.28

### विक्री योग्य

विक्रय 861.22

### विखरन

छिडन 1032.5

### विखरना

एकता भग होना 699.11

क्रमहीन होना 992.4

छिडना 1032.19

विघटित होना 544.12

### विखरा [विखरी]

एकताहीन 699.14

क्रमहीन 992.5

खिडा [खिडी] 1032.31

ध्यानहीन 331.13

विखरा [विखरी] 868.25 ⇨

योजनाहीन 520.21

विकीर्ण 288.11

विकेंद्रित 971.22

### विखराई

विखराय 868.1

### विखराना

छिडकना 868.20

छितराना 868.21

विखरना 868.14

विकीर्ण करना 288.9

विकेंद्रित करना 971.15

### विखरापन

क्रमहीनता 992.1

योजनाहीनता 520.15

### विखराय

उंडलाय 1032.4

एकताहीनता 899.1

क्रमहीनता 992.1

छिटकाय 868.5

छितराय 868.8

ध्यान भंग 331.4

ध्यानहीनता 331.3

विखराय 868.1 ⇨

विकिरण 288.5

विघटन 544.1

### विखरी बरबु: एकत्रण

संवरण 867.5

### विखरे बाल

असंगत केश 223.6

### विखरेना

विखरेना 868.14 ⇨

घारफेर करना 710.19

### विखरेने बाला

विखरेने बाला 868.26 ⇨

### विखरे होना

एका न होना 899.10

### विग टाप (अ)

सरकस स्थान 482.22

### विग टाप (अ)

सरकस 473.8

सरकस तंबू 800.23

### विगडना

अप्रसन्न होना 381.8

अवनति होना 535.4

कुय्यसनी होना 812.10

क्रुद्ध होना 373.15

### विग डना

विधुधिकाना 373.21

### विगडना

जर्जर होना 536.6

अल्लाना 373.24

दुश्चरित्र होना 811.4

निर्धन होना 627.14

मित्रता टूटना 705.24

यंत्र विकृत होना 536.5

लालसा करना 359.14

विद्रोह करना 903.14

वैमनस्य होना 706.14

### विगका

दुश्चरित्र 811.5

### विगका [विगकी]

अत्यधिक लाका 721.16

अवनत 535.5

तुका मुका [तुकी मुकी] 975.31

विकृत 536.8

विकृत (यंत्र) 536.10

### विगका गवाह

दुष्ट साक्षी 876.16

### विगकापन

अत्यधिक लाकापन 721.5

दुश्चरित्रता 811.1

### विगका रंग

विवर्ण रंग 289.24

### विगका शब्द

विकृत शब्द 423.6

### विगकी

दुश्चरित्रता 811.6

### विगकूल

क्रोधी 373.29

### विगाड

अत्यधिक लाक 721.4

मित्रता विस्थापना 705.16

यंत्र विकृति 536.2

रोग विकृति 163.11

विकार 536.1

### विगाड करना

शत्रुता करना 706.12

### विगाडना

अत्यधिक लाक करना 721.10

उकसाना 499.6

तोड़ना मरोड़ना 975.23

नष्ट करना 531.5

पट्टी पड़ाना 332.13

विकृत करना 536.4

शत्रुता करना 706.12

### विगाडने की हद तक लाक डुलार

अत्यधिक लाक 721.4

### विगाडने बाला

विकारक 536.9

### विगाडू

विकारक 536.9

### विगुल

आरंभ संकेत सूची 521.8

विगुल 461.65 ⇨

युद्ध घोषणा 907.14

होर्न 481.92

### विगुलघी

विगुल वादक 461.66

### विगुल बजाना

युद्ध आरंभ करना 907.35

### विगुल वादक

विगुल वादक 461.66 ⇨



विगेमिस्ट (अं)  
द्विपत्नी कर्ता 799.70  
विच-  
आंतरिक 999.12  
विच  
मध्य 998.1  
विचकन  
विचलन 501.4  
विचकना  
शीकना 379.6  
विचनीबा [विचनीबी]  
मध्यम स्तरीय 313.18  
विचनीबापन  
मध्यम स्तरीयता 313.9  
विचलन  
विचलन 501.4  
विचलना  
मुकरना 338.25  
लक्ष्य ध्युत होना 931.19  
विचलित होना 501.7  
विस्थापित होना 1036.11  
विचला [विचली]  
आंतरिक 999.12  
मध्य तलीय 986.15  
मध्यम 978.6  
मध्यम राष्ट्रीय 947.27  
मध्यम स्तरीय 313.18  
मध्यवर्ती 996.7  
मध्येष्ट 229.27  
विचला तल  
मध्य तल 985.2  
विचवर्ष  
विचोलिया 877.10  
बीच बचाव 877.9  
विवाचक पंच 877.7  
विचवाका  
मध्य स्थान 996.4  
विचवान  
विचोलिया 877.10  
विचवानी  
विचोलिया 877.10  
विचारा [विचारी]  
विचरा 901.11  
विचुआ  
विवाह घटक 801.1  
विचोलिया  
दलाल 659.2  
विचोलिया 877.10 ⇨  
विवाह घटक 801.1  
विचोलियापन  
बीच बचाव 877.9  
विष्णु  
कीट सूची 122.12  
विष्णु 122.31 ⇨  
विष्णु: उंक  
विष्णु: उंक 144.13 ⇨  
विचकाना  
वियोग करना 388.6

विचन  
विचन 592.3 ⇨  
विचलन  
फिसलन 1084.15  
विचलना  
उगमगाना 1084.35  
फिसलना 1084.37  
विचा [विची]  
विचा [विची] 592.16 ⇨  
विचाई  
विचाई 592.4 ⇨  
विचात  
विचात 479.33  
विचाना  
जीतना 912.12  
विचरना 608.14  
विचाना 592.10 ⇨  
विचापन  
अनुकितजता 1020.5  
विचायत  
विचायन 593.35  
विचायन  
विचायन 593.35 ⇨  
विचावन चादर 593.28  
विचोना 593.47  
विस्तार 593.58  
विचावन चादर  
विचावन चादर 593.28 ⇨  
विचिया  
विचुआ 228.22  
विचुआ  
विष्णु 122.31  
विचुआ 228.22 ⇨  
विचुए  
सुहाग चिह्न सूची 803.15  
विचुकना  
खो जाना 863.4  
तलाक़ देना 804.23  
मार्गध्युत होना 1099.5  
विदा होना 1058.4  
वियोग होना 388.5  
विलग होना 1011.3  
विचुका  
वियोगी 388.8  
विचुका [विचुकी]  
अप्राप्तमार्ग 1099.10  
मार्गध्युत 1099.8  
विलब्ध 863.7  
विचुकी  
वियोगिनी 388.9  
विचुकी नायिका  
प्रोथितपतिका नायिका 456.11  
विचुरता  
वियोगी 388.8  
विचुरती  
वियोगिनी 388.9  
विचोह  
प्रिय वियोग 388.3

विचोहिनी  
वियोगिनी 388.9  
विचोही  
वियोगी 388.8  
विचोना  
गदा 593.39  
विचावन 593.35  
विचोना 593.47 ⇨  
विस्तार 593.58  
विचोनिया  
छोटा विचोना 593.48  
विचोनी  
छोटा गदा 593.41  
छोटा विचोना 593.48  
विजना  
पंखा 85.27  
विजनेस (अं)  
व्यापार 657.1  
विजनेसदेन (अं)  
व्यापारी 657.2  
विजली  
इंद्र वज्र 928.8  
गुठली: बीजली 112.4  
मेघ विद्युत 55.9  
विद्युत 102.1  
विजली करंट  
विद्युत करंट 102.2  
विजली की तरह  
शीघ्रता 498.13  
विजली: कुरसी  
विजली: कुरसी 871.15 ⇨  
विजली: खंभा  
लैप पोस्ट 285.28  
विजली गाड़ी  
विद्युत यान 1070.7  
विजली घर  
विजली घर 102.7 ⇨  
विजली: चमक  
विद्युत चमक 55.10  
विजली: तार  
विजली: तार 102.8 ⇨  
विजली धक्का  
शीक 101.10  
विजली: मृत्यु बंड  
विजली: मृत्यु बंड 871.6 ⇨  
विजली: मोटर  
विद्युत इंजन 1078.2  
विजली: रेलगाड़ी  
विजली: रेलगाड़ी 1071.67 ⇨  
विजली: लट्टू  
बल्ब 285.23  
विजली: लैप  
लैप स्टैंड 285.25  
विजली से चलने वाली बस  
ट्रौली बस 1071.83  
विजायत  
बाजूबंद 228.20

विजार  
सॉक 127.12  
विजुरिया  
मेघ विद्युत 55.9  
विजुरी  
मेघ विद्युत 55.9  
विजुली  
गुठली: बीजली 112.4  
विजुका  
कृषि रत्नक पुतला 650.3  
विजोग  
प्रिय वियोग 388.3  
विजोरी  
उकद. बड़ी 192.15  
विजु  
मेघ विद्युत 55.9  
विजुपात  
विद्युत पात 55.11  
विजुल  
मेघ विद्युत 55.9  
विट  
विट 951.22 ⇨  
विट (अं)  
बरमा: वज्र 559.50  
विट 951.22  
विटप  
बृक्ष 111.18  
विटबना  
सुसनी 684.2  
विटारना  
घंघोलना 1008.22  
विटालना  
उच्छिष्ट करना 198.10  
विटिया  
पुत्री 718.10  
बालिका 230.24  
विटुवनी कोयला  
सॉफ्ट कोक 110.9  
विट्टो  
पुत्री 718.10  
विट्टल  
विट्टल अवतार 769.12  
विट्टन (अं)  
मकरी 1073.36  
विटोबा  
विट्टल अवतार 769.12  
विड  
पत्नी विद्या 216.5  
विड (अं)  
नीलाम बोली 659.11  
विडई  
ईशुरी 584.2  
विडरना  
शीकना 379.6  
विडाल  
नर बिल्ली 127.57  
विताते  
व्यतीतत: 74.5

## खित

<b>खिल</b>	स्वेटर बुनावट 576.10	<b>खिना डरे</b>	<b>खिञ्चोक</b>
क्षमता 487.7	<b>खिनध्यास्त</b>	साहसपूर्वक 394.18	गर्वाक्ति 842.2
<b>खिला</b>	निरिधत 378.8	<b>खिना तला [खिना तली]</b>	रूप अभिमान 860.6
क्षमता 487.7	<b>खिनन</b>	अनतला [अनतली] 195.74	<b>खिञ्चोकी</b>
प्रतिष्ठा 849.2	घुगन 526.9	<b>खिना तोड़े</b>	गर्वाक्ति कर्ता 842.13
बालिरत 150.5	घुगाई 1009.7	एकबारगी 634.38	<b>खिनोट</b>
बालिरत 959.14	<b>खिन बुलाए</b>	<b>खिना थके</b>	बाँबी 603.6
वरा 899.13	अनिमंत्रितत 1056.11	<i>खिना थके 493.17 ⇨</i>	<b>खिनीटा</b>
<b>खिधकना</b>	<b>खिनबुलाया [खिनबुलाई]</b>	<b>खिना बुझा घूना</b>	बाँबी 603.6
थकना 492.10	अनिमंत्रित 1056.8	कली घूना 290.23	<b>खिमोरा</b>
<b>खिधरना</b>	<b>खिन बोले</b>	<b>खिना मतलब</b>	बाँबी 603.6
विलग होना 1011.3	मौनत 429.29	प्रयोजनहीनत 509.5	<b>खियर</b>
<b>खिधराना</b>	<b>खिन ब्याहा</b>	<b>खिना मुड़े</b>	<i>खियर 209.10 ⇨</i>
छितराना 668.21	अविवाहित 234.13	सीधे 1098.32	<b>खियर (अँ)</b>
खिखेरना 668.14	<b>खिन ब्याही</b>	<b>खिना यत्न</b>	खियर 209.10
<b>खिधारना</b>	अविवाहिता 234.14	अप्रयत्नत 490.15	<b>खियर (वे.)</b>
विलग करना 1011.4	<b>खिन मोंगे</b>	<b>खि.र.रके</b>	जो. मघ 209.8
<b>खिधोरना</b>	अयाधितत 642.23	अखिरामत 1049.16	<b>खियाक</b>
छितराना 668.21	<b>खिनस</b>	तारतम्यपूर्वक 1049.22	थान क्यारी 551.19
<b>खिधकना</b>	घुगन 526.9	<b>खिना लागलपेट</b>	<b>खियाना</b>
उत्तेजित होना 371.7	<b>खिना</b>	स्पष्टत 822.32	पशु पक्षी द्वारा प्रसव करना 244.12
क्रुद्ध होना 373.15	कारण 507.3	<b>खिना विषारे</b>	<b>खियाबान</b>
घाँकना 379.6	नीर्वै 607.12	अटकल के सहारे 947.29	निर्जन 617.16
<b>खिधकाना</b>	रहित 1007.3	विचारहीनत 330.30	मरुथल 11.11
उकसाना 499.6	<b>खिना-</b>	<b>खिना हाक</b>	वन 12.1
<b>खिधरना</b>	रहित उपसर्ग सूची 1007.5	अवश्यमेव 68.21	<b>खियाबानी</b>
फटना 544.15	<b>खिना</b>	<b>खिना साम्ने का</b>	निर्जनता 617.6
<b>खिधराना</b>	रहितत 1007.4	एक स्वामीय 621.26	<b>खियाह</b>
फाड़ना 544.16	विलगत 1011.7	<b>खिना साथी !</b>	विवाह 799.1
<b>खिदा</b>	<b>खिना [खिनी]</b>	एकातत 697.21	<b>खिरंधि</b>
खिदायगी 800.31	घुगा [घुगी] 1009.21	<b>खिना सोधे</b>	ब्रह्मा 766.1
खिदा 1058.1	बुना [बुनी] 576.27	विचारहीनत 330.30	<b>खिरंज</b>
<b>खिदाई</b>	<b>खिनाई</b>	<b>खिना सोधे समझे</b>	घावल 187.9
खिदायगी 800.31	घुगन 526.9	जल्दबाजी में 496.14	पीतल 94.10
खिदा 1058.1	घुगाई 1009.7	<b>खिनु</b>	<b>खिरंजारी</b>
खिदा विषयक 1058.6	बुनती डिजाइन 572.15	रहित 1007.3	अनाज विक्रेता 663.12
खिदा विषयक 388.1	बुनाई कर्म 576.1	<b>खिनीला</b>	पंसारी 663.14
<b>खिदागी</b>	स्वेटर बुनावट 576.10	तिहलन सूधी 196.14	<b>खिरंजी</b>
खिदायगी 800.31	<b>खिना कारण</b>	<i>खिनीला 196.18 ⇨</i>	झाईंग पिन 417.8
<b>खिदायगी</b>	प्रयोजनहीनत 509.5	<b>खिनीला विलगन</b>	खिरंजी कील 1016.12
<i>खिदायगी 800.31 ⇨</i>	<b>खिना कुछ करे धरे</b>	ओटाई 567.1	<b>खिरंजी कील</b>
<b>खिदायगी (वे.)</b>	अप्रयत्नत 490.15	<b>खिपदा</b>	<i>खिरंजी कील 1016.12 ⇨</i>
खिदा 1058.1	<b>खिना कुछ छिपाए</b>	कष्ट 392.1	<b>खिरछ</b>
<b>खिधेस</b>	स्पष्टत 822.32	भौतिक संकट 909.3	वृक्ष 111.18
परदेश 34.11	<b>खिना तलती</b>	<b>खिफरना</b>	<b>खिरता</b>
सीमांतर प्रदेश 1001.26	सावधानत 497.6	उत्तेजित होना 371.7	क्षमता 487.7
<b>खिधा [खिधी]</b>	<b>खिना गिने</b>	घाँकना 379.6	प्रतिष्ठा 849.2
अंतर्वेधित 271.22	असख्यत 944.13	रोना 386.16	<b>खिरथा</b>
<b>खिधानी</b>	<b>खिना घटाए</b>	लालसा करना 359.14	अनुपयोगी 525.8
खिधायक 878.22	असंक्षिप्तत 978.8	विद्रोह करना 903.14	<b>खिरबंग</b>
<b>खिन-</b>	<b>खिना चुके</b>	हठ करना 349.9	मृदंग 461.72
रहित उपसर्ग सूची 1007.5	उपयुक्त अवसर पर 70.16	<b>खिब</b>	<b>खिरदत</b>
<b>खिन</b>	<b>खिना छिपे</b>	<i>खिब 585.27 ⇨</i>	ख्यात 847.3
विलगत 1011.7	समक्षत 1021.11	<b>खिब (अँ)</b>	<b>खिरमना</b>
<b>खिन (अँ)</b>	<b>खिना दूटे</b>	खिब 585.27	अटकना 1024.9
स्टोरेज खिन 671.24	अखिरामत 1049.16	<b>खिञ्चो</b>	आसक्त होना 365.3
<b>खिनती</b>	तारतम्यपूर्वक 1049.22	गर्वाक्ति कर्ता 842.13	गति रुद्ध होना 1047.16
बुनती डिजाइन 572.15		रूप अभिमानिनी 860.22	प्रेम होना 368.12

**विरमाना**

आसक्त करना 365.4  
 प्रेमानुरक्त करना 368.14  
 फुसलाना 374.16  
 विस्मरण करना 357.7  
 सम्मोहन करना 367.5

**विरला [विरली]**

अनुपम 312.17  
 कोई एक 946.21  
 दुर्लभ 942.19  
 विरल 1005.9  
 विलक्षण 312.16

**विरलापन**

अनुपमता 312.4

**विरले**

अल्प 942.13

**विरया**

पीघा 111.14  
 वृक्ष 111.18

**विरस**

रसहीन 84.18  
 स्वादहीन 275.16

**विरह**

प्रिय वियोग 388.3

**विरहन**

वियोगिनी 388.9

**विरहनी**

वियोगिनी 388.9

**विरहा**

प्रिय वियोग 388.3  
 विरहा 457.37 ⇨  
 वियोग दुःख 388.4

**विरहिन**

वियोगिनी 388.9

**विरही**

वियोगी 388.8

**विराग**

विरक्ति 366.2

**विरागना**

विरक्त होना 366.4

**विराजना**

बैठना 1028.8  
 शोभान्वित होना 226.7

**विरावर**

भाई 723.4  
 स्वजन 725.1

**विरावरी**

कबीला 729.11  
 गोत्र 729.1  
 जाति 730.1  
 स्वजन 725.1  
 स्वजन भावना 725.2

**विरावरी वाले**

स्वजन 725.1

**विराना [विरानी]**

अपरिचित 697.16  
 परजनिय 725.7

**विरिख**

वृक्ष 111.18

**विरिछ**

वृक्ष 111.18

**विरियी**

बारी से 70.18

**विरियानी**

विरियानी 202.4 ⇨

**विरि**

उद्दिभद 117.20  
 प्रस्फुटित 119.10

**विरोग**

धिता 377.2  
 दुःख 391.1

**विरोजा**

गंधा विरोजा 1012.10

**विरोधना**

विरोध करना 886.5

**विरलंबना**

प्रलंबित होना 1024.8

**विरल**

गुहा 15.9  
 विल 603.7 ⇨  
 विल 632.28 ⇨

**विर (अँ)**

जावक पत्र 1054.7  
 विल 632.28

**विरधेयक**

विधेयक 878.23

**विर (अमरीका)**

कागजी सिक्का 629.2  
 विल आक्र ऐक्सचेंज (अँ)  
 हुंडी 633.16

**विराख**

विलाप 386.9

**विरलगना**

विलग होना 1011.3

**विरलगाना**

विलग करना 1011.4

**विरलगाय**

विलगनन 1011.1

**विरलटी**

जावक पत्र 1054.7

**विरसना**

भ्रमर 122.33

**विरसनी**

अंजनहारी 167.8

**विरसपना**

विलाप करना 386.23

**विरल पे करना**

मूल्य देना 664.22

**विरलविलाता [विरलविलाती]**

कुलबुलाला [कुलबुलाली] 392.23

**विरलविलाता**

आर्तनाद करना 386.17

उद्दिन होना 377.7

कुलबुलाला 392.17

गिड़गिड़ाना 350.13

तरुपना 392.20

विलाप करना 386.23

**विरलविलाहट**

कुलबुलालाहट 392.2

गिड़गिड़ालाहट 350.8

**विरल बुक**

विल बुक 415.22 ⇨

**विरल बोर्ड (अँ)**

प्रचार पट 442.13  
 होडिंग 442.14

**विरलमना**

प्रेम होना 368.12

**विरलमाना**

प्रेमानुरक्त करना 368.14

**विरलसाना**

विलाप करना 386.23

**विरलल्ला [विरलल्ली]**

अप्रयत्नशील 490.9

फूहड़ 403.5

**विरला-**

अतिरिक्त 945.4  
 रहित उपसर्ग सूची 1007.5

**विरलाई**

कॉटा 1016.33  
 विल्ली 127.56

बेलाई 545.14

मूसला 609.22

लंगर 1073.17

**विरलाना**

खो जाना 863.4

**विरलाया**

मूसला 609.22

**विरलारी**

विल्ली 127.56

**विरलाय**

नर विल्ली 127.57

**विरलायल**

पति 803.5

पत्नी 803.6

प्रेमपात्र 369.4

प्रेमी 368.2

राग रागिनी सूची 457.24

**विरलाराक**

संदेहहीनता 340.23

**विरलारात**

अपरंतुकता 339.51

**विरलासनना**

विलास करना 363.12

**विरलियर्ड**

विरलियर्ड 478.3 ⇨

**विरलियर्ड कक्ष**

विरलियर्ड कक्ष 482.5 ⇨

**विरलियर्ड गोली**

विरलियर्ड गोली 479.8 ⇨

**विरलियर्ड छड़ी**

विरलियर्ड छड़ी 479.31 ⇨

**विरलियर्ड टेबल (अँ)**

विरलियर्ड मेज 479.38

**विरलियर्ड मेज**

विरलियर्ड मेज 479.38 ⇨

**विरलिरा**

मछली चारा 252.9

**विरलीया**

विल्ली 127.56

**विरलोई**

मथन 554.12

**विरलोइन**

मथन 554.12

**विरलोइनना**

मथन करना 554.21

**विरलाना**

ऑसू बहाना 387.6

मथन करना 554.21

**विरलानोनी**

मथन दड 554.14

**विरलोया [विरलोई]**

मथिल 554.26

**विरलीटा**

नर विल्ली 127.57

**विरल्-**

सहित- उपसर्ग सूची 1006.4

**विरलकुल**

अवश्यमेव 68.21

अवश्यमेव उक्ति सूची 68.23

आद्योपात 940.14

पूर्णाशतः 940.15

पूर्णांशिक 940.13

प्रतिरुपता 967.23

लक्ष्य पर 931.26

संकल्पपूर्वक 500.16

संदेहहीनता 340.23

सनिरश्चय हों 337.30

**विरलकुल अकेला**

नितांत एकाकी 697.15

**विरलकुल अलग**

विपरीत 310.7

**विरलकुल छोटा**

सूक्ष्म 980.21

**विरलकुल ठीक**

लक्ष्य पर 931.26

सही आकार का 961.16

**विरलकुल नया [विरलकुल नई]**

नवीनतम 64.11

**विरलकुल नहीं**

असंभवतः 68.20

कभी नहीं 72.12

सनिरश्चय नहीं 338.53

**विरलकुल सामने**

ठीक सीधे 1098.33

**विरलकुल सीधे**

ठीक सीधे 1098.33

**विरलिंग (अँ)**

इमारत 602.6

**विरल्ला**

नर विल्ली 127.57

पदक 857.7

## बिल्सी

बिल्सी  
बिल्सी 127.56 ⇨  
मूसला 609.22  
बिल्सी की तरह  
ध्वनिहीनता: 295.6  
बिल्सी: बोली  
म्याऊँ 298.26  
बिल्सीर  
स्फटिक 283.20  
बिल्सीरी कौंच  
बिल्सीरी कौंच 283.15 ⇨  
स्फटिक 283.20  
बिल्ख  
बिल्ख 190.27 ⇨  
बिल्ख डंडी  
शिय 767.1  
बिल्ख कल  
बिल्ख 190.27  
बिघाई  
बिघाई 165.6 ⇨  
बिघाप  
बिघाप 744.34 ⇨  
बिघाप (अँ)  
बिघाप 744.34  
बिघाप: गिरजाघर  
कैधीजूल 745.21  
बिस  
कमल ककड़ी 189.11  
बिसमय  
आरघ्य 379.1  
बिसमिल  
मात्रा [मारी] 251.23  
बिसराना  
विस्मरण करना 357.7  
बिसराम  
विश्राम 494.1  
बिसवार  
फिट बैग 673.6  
बिसात  
कमता 487.7  
प्रतिष्ठा 849.2  
प्रसार 979.3  
बिछावन 593.35  
बिछावन चादर 593.28  
बिसात 479.33 ⇨  
बिसात छाना  
जनरल स्टोर 662.7  
रसद विभाग 856.11  
बिसातबाना  
परचून 186.8  
बिसाता  
रसद 656.10  
बिसाली  
जनरल मर्चेट 662.8  
बिसायैध  
सकायैध 273.6  
बिसारना  
विस्मरण करना 357.7

बिसाली [बिसालिन]  
विश्वासघाती 827.19  
बिसाहना  
क्रय करना 660.14  
बिसाहनी  
क्रय 660.1  
क्रीत सामान 660.4  
बिसाहा  
सौदा 658.3  
बिसिनी  
कमल 14.4  
कमल सरोवर 18.3  
बिसुरना  
औसू बहाना 387.6  
रोना 386.16  
बिसोखना  
सविस्तार विवरण करना 449.21  
बिसोक  
शोकहीन 382.24  
बिस्किट  
धातु पिंड सूची 976.12  
बिस्किट 202.40 ⇨  
बिस्किट (अँ)  
बिस्किट 202.40  
बिस्कुट  
बिस्किट 202.40  
बिस्तर  
पलंग 594.10  
बिछोना 593.47  
बिस्तर 593.58 ⇨  
शय्या 594.1  
बिस्तर चादर  
बिस्तर चादर 593.34 ⇨  
बिस्तरनी  
स्ट्रैचर 1071.25  
बिस्तरबंद  
बिस्तरबंद 593.59 ⇨  
बिस्तर शायी  
शय्या शायी 1027.20  
बिस्तरा  
बिस्तर 593.58  
शय्या 594.1  
बिस्तरा  
स्ट्रैचर 1071.25  
बिस्तुहया  
छिपकली 123.7  
बिस्मिल्ला  
शुभ आरंभ: उक्ति सूची 521.9  
बिस्मिल्लाह  
शिक्षा आरंभ 321.2  
शुभ आरंभ 521.2  
बिस्व्या  
बिस्व्या 959.36 ⇨  
बिहँसना  
प्रसन्न होना 381.4  
बिहँसाना  
प्रस्फुटित होना 119.6

बिहरना  
आनंद यात्रा करना 1085.11  
बिहाग  
राग रागिनी सूची 457.24  
बिहान  
आगामी कल 46.14  
प्रभात काल 47.4  
बिहार  
आश्रम 745.2  
बिहार 28.52 ⇨  
बौद्ध मठ 745.12  
बिहार: राजधानी  
बिहार: राजधानी 28.53 ⇨  
बिहारी  
पर्यटनशील 1090.45  
विचरण कर्ता 1085.2  
चिनोदी 385.13  
विश्राम प्रेमी 490.12  
बिहाल  
उत्पीकित 391.28  
बिहिरत  
बिहिरत 259.2 ⇨  
बिहिरती  
भिरती 19.26  
स्वर्गिक 259.10  
बिहीबाना  
अनार 190.5  
बिहु (असन)  
नव वर्ष सूची 42.19  
बिहोरना  
वियोग होना 388.5  
बिहोरा  
प्रिय वियोग 388.3  
बीकी  
ईडुरी 584.2  
बीध  
अंतर्वेधन 271.1  
अंतर्वेधित छिद्र 271.2  
बीधना  
छेदना 271.20  
बीधने वाला  
अंतर्वेधक 271.21  
बी  
विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.6  
बीजर (अँ)  
मंदकिया 628.17  
बीए (अँ)  
स्नातक उपाधि 322.28  
बीकन (अँ)  
अवतरण संकेत 1074.26  
बीका [बीकी]  
कोणयुक्त 970.12  
चंचल 860.24  
बीका [बीकी] 860.23  
वक्र 974.16  
वीर 396.6  
बीकीपिंग (अँ)  
मधुमक्खी पालन 555.8

बीघा  
बीघा 959.37 ⇨  
बीघा: हठ  
बिस्वा 959.36  
बीघ  
अंतराल 33.9  
अंदर 999.17  
अर्थ बिंदु 971.3  
कार्य मध्य में 996.9  
तब तक 39.15  
पर्यंत 39.12  
मध्य 996.1  
मध्य भाग 996.3  
मध्य स्थान 996.4  
बीघ (अँ)  
बेला तट 25.21  
बीघ: अस्तर  
अंतर्पत्र 1002.7  
बीघ का  
आंतरिक 999.12  
मध्यम 978.6  
मध्यम राशीय 947.27  
मध्यवर्ती 996.7  
बीघ का परवा  
बीघ का परवा 605.7 ⇨  
बीघना  
घटित होना 75.8  
बीघ बचाव  
बीघ बचाव 877.9 ⇨  
बीघ बचाव करना  
बीघ बचाव करना 877.21 ⇨  
बीघ बचाव निर्णय  
विवाचन पंचाट 877.8  
बीघ बाज़ार  
अनुपगत: 822.34  
बीघम बीघ  
मध्य बिंदु पर 996.8  
बीघ में  
अंदर 999.17  
बीघ में  
अवधि में 39.11  
असमाप्तत: 523.7  
कार्य मध्य में 996.9  
मध्य बिंदु पर 996.8  
बीघ में घुसना  
हस्तक्षेप करना 1047.20  
बीघ में पड़ना  
बीघ बचाव करना 877.21  
बीघ में रखना  
प्रतिष्ठ करना 1094.19  
बीघ में रखा  
प्रतिष्ठित 1094.25  
बीघ में रखा अतिरिक्त पत्ता  
प्रतिष्ठक 1002.8  
बीघ में लगा  
प्रतिष्ठित 1094.25  
बीघ में लगाना  
प्रतिष्ठ करना 1094.19

बीच से पटी नौका  
पटी नौका 1072.7  
बीधि  
समुद्री लहर 1040.18  
बीचो बीच  
मध्य बिंदु पर 996.8  
बीज  
अज्ञात राशि: प्रतीक 952.9  
आरंभिक अवस्था सूची 994.23  
केंद्र बिंदु 971.1  
बीज 112.1 ⇌  
मंत्र कथ्य 741.3  
मूल तथ्य 820.16  
दीर्घ 130.10  
सारांश 449.12  
बीज: आधार  
बीज कोश 112.7  
बीजक  
जाचक पत्र 1054.7  
बिल 632.28  
सूची 993.1  
बीज कोश  
बीज कोश 112.7 ⇌  
बीज क्रिया  
बीज गणित क्रिया 953.5  
बीज: खेत  
बीज: खेत 551.9 ⇌  
बीज गणित  
बीज गणित 953.4 ⇌  
बीज गणित क्रिया  
बीज गणित क्रिया 953.5 ⇌  
बीज: गिरी  
बीज: गिरी 112.2 ⇌  
बीज विह्वन  
अज्ञात राशि: प्रतीक 952.9  
बीज डालना  
बुआई करना 548.35  
बीजतः  
सारांशतः 449.33  
बीज दर्शक  
मंच संचालक 468.10  
बीज धान्य  
धनिया 281.21  
बीजन  
अंकुरण 117.1  
आबीजन 118.5  
बीज नली  
हल: सेल 563.14  
बीजना  
अंकुर निकलना 117.10  
पंखा 85.27  
बीज नाम  
प्रथमाक्षरी नाम 980.8  
बीज पकना  
बीज बनना 118.11  
बीज पुरुष  
वंश प्रवर्तक 727.7

बीज बनना  
बीज बनना 118.11 ⇌  
बीज बुआई  
बुआई 548.7  
बीज मंत्र  
गुर 517.4  
गुरुमंत्र 742.10  
बीज मार्ग  
वाममार्ग 737.46  
बीजयुक्त  
बीजयुक्त 112.19 ⇌  
बीज रूप  
संक्षिप्त शब्द 980.6  
बीज रेचन  
जमालगोटा 216.9  
बीजल  
बीजयुक्त 112.19  
बीजली  
गुठली. बीजली 112.4  
बीज: गिरी 112.2  
मेघ विद्युत 55.9  
बीजयाप  
होने वाला 548.51  
बीज शब्द  
प्रथमाक्षरी शब्द 980.7  
संक्षिप्त शब्द 980.6  
बीज समूह  
बीज समूह 112.9 ⇌  
बीजहीन  
बीजहीन 112.20 ⇌  
बीजांकुर  
अंकुर 113.1  
बीजांकुरण  
अंकुरण 117.1  
बीजा [बीजी]  
अंकुरित 117.18  
दूसरा [दूसरी] 948.86  
बीजाकरण  
बुआई 548.7  
बीजाकृत  
जुता बुआ खेत 551.13  
बोयां [बोई] 548.50  
बीजाक्षर  
अज्ञात राशि: प्रतीक 952.9  
प्रथमाक्षरी शब्द 980.7  
शब्द: प्रथम अक्षर 410.3  
बीजाधार  
बीज कोश 112.7  
बीजाध्यक्ष  
शिय 767.1  
बीजारोपण  
बुआई 548.7  
बीजारोपित  
बोयां [बोई] 548.50  
बीजिया  
बीजयुक्त 112.19  
बीजी  
गुठली: बीजली 112.4

बीज: गिरी 112.2  
बीजयुक्त 112.19  
बीजी 191.15 ⇌  
बीजु  
मेघ विद्युत 55.9  
बीजुरी  
मेघ विद्युत 55.9  
बीजोद्भव  
आबीजन 118.5  
बीझ  
बीहक 987.9  
बीझा  
बीहक 987.9  
बीट  
पक्षी विष्ठा 216.5  
बीट (अँ)  
ताल 458.23  
बीटा कण  
बीटा कण 78.18 ⇌  
बीटिंग व रिट्रीट  
बीटिंग व रिट्रीट 907.18 ⇌  
बीटिंग व रिट्रीट (अँ)  
बीटिंग व रिट्रीट 907.18  
बीटिंग (प्र)  
बीटा कण 78.18  
बीड  
बीड 674.9 ⇌  
बीड (अँ)  
मनका 228.48  
बीडा  
पान बीडा 213.18  
बीडा 674.10 ⇌  
संकल्प 500.1  
बीडा उठाना  
पुनीती स्वीकारना 917.9  
गतिज्ञा करना 339.29  
संकल्प करना 500.6  
बीड़ी  
बीड़ी 674.11 ⇌  
बीड़ी 213.7 ⇌  
बीड़ी सिगरेट  
धूम्रपान 213.14  
बीड़ी सिगरेट 213.6 ⇌  
बीड़ी सिगरेट पीना  
धूम्रपान करना 213.29  
बीतते  
व्यतीततः 74.5  
बीतना  
अतीत होना 63.5  
काल क्षेप होना 36.15  
घटित होना 75.8  
व्यतीत होना 74.2  
बीता [बीती]  
अतीत 63.8  
घटित 75.11  
भूत कालीन 36.18  
भूतपूर्व 65.3  
व्यतीत 74.3

बीता कल  
विगत कल 46.13  
बीतापन  
अतीतता 63.3  
बीता समय  
भूत काल 36.10  
बीती  
घटना 75.1  
वृत्तांत 449.14  
व्यतीति 74.1  
बीते  
व्यतीततः 74.5  
बीबाना  
बीजहीन 112.20  
बीभा  
मूल्यांकन 664.4  
बीन  
धुगाई 1009.7  
बीन 461.67 ⇌  
वीणा 461.77  
बीमना  
कोटिकरण करना 936.6  
धुगना 1009.16  
बुनना 576.24  
बीन बाजा  
बैंगपाइप 461.69  
मंगल वाद्य सूची 796.12  
बीन मास्टर  
बैंड मास्टर 460.5  
बीना  
वीणा 461.77  
बीना [बीनी]  
धुगा [धुगी] 1009.21  
बीनाई  
दृष्टि 282.1  
बीपी (अँ)  
रुधिर चाप 131.4  
बीबी  
ननद 724.32  
पुत्री 718.10  
स्त्री 236.3  
बीभत्स  
घृणित 370.6  
बीभत्स रत्न  
नवरत्न सूची 455.11  
बीभत्स रत्न 455.14 ⇌  
बीमा  
बीमा 631.17 ⇌  
बीमा बलाल  
बीमा बलाल 631.22 ⇌  
बीमा पालिसी  
बीमा पालिसी 631.20 ⇌  
बीमा पालिसी होल्डर (अँ)  
बीमेदार 631.21  
बीमार  
रोगग्रस्त 162.5  
रोगी 162.3

## बीमारी

**बीमारी**  
रोग 163 1  
रोगग्रस्तता 162 1  
**बीमारी की छुट्टी**  
रोग अवकाश 494 12  
**बीमारी लगना**  
संक्रमित होना 169 11  
**बीमेदार**  
बीमेदार 631 21 ⇨  
**बीयरिंग (अँ)**  
बाल बेयरिंग 1077 22  
**बीर**  
पुत्र 718 3  
भाई 723 4  
योदा 934 15  
**बीरन**  
गोंडर घास मूल 112 15  
भाई 723 4  
**बीर बहूटी**  
कीट सूची 122 12  
बीर बहूटी 122 32 ⇨  
**बीरबानी**  
स्त्री 236 3  
**बीवर (अँ)**  
बीवर ऊद बिलाव 124 6  
**बीवर ऊद बिलाव**  
बीवर ऊद बिलाव 124.6 ⇨  
**बीधी**  
कुलीन स्त्री 728 7  
पत्नी 803 6  
स्त्री 236 3  
**बीधी बच्चे**  
बीधी बच्चे 726.11 ⇨  
**बीधी मरना**  
विधुर होना 804 25  
**बीस**  
बीस 948.55 ⇨  
बीस समुदाय 687 14  
**बीस: उपमान सूची**  
बीस उपमान सूची 948 58 ⇨  
**बीस बिस्वे**  
शत प्रति शत 947 32  
**बीसवीं सदी**  
आधुनिक काल 76 9  
**बीस: समुदाय**  
बीस समुदाय 687 14 ⇨  
**बीसा**  
वैश्य 731 24  
**बीसा यंत्र**  
गंडा तावीज़ सूची 759 5  
**बीसी**  
बीस समुदाय 687 14  
विंशति लव प्रणाली 950.9  
**बी.सी. (अँ) (बीज रूप)**  
ईसा से पहले 42 6  
**बीहक**  
अगम्य 519 25  
असमतल 987 6

असमतल भूमि 987.2  
कठिन 519 18  
निर्जन 617 16  
**बीहड़ 987.9 ⇨**  
**बीहड़ भूमि 987.5**  
मिड 1063 46  
विकराल 154 23  
**बीहड़ (दे.)**  
कटान 15 6  
**बीहड़ता**  
अगम्यता 519 9  
असमतलता 987 1  
**बीहड़ता 987.4 ⇨**  
विकरालता 154.8  
**बीहड़ भूमि**  
**बीहड़ भूमि 987.5 ⇨**  
**बूंदका**  
बड़ी बूंद 88.13  
**बूंदकी**  
घनीरी 200 14  
छोटी बूंदकी 578 8  
छोटी बूंद 88 12  
बिंदु घिहन 968 2  
बूंदी 977.6  
**बुंदा**  
कण कुडल 228 9  
टिकली 977 12  
बुदा 228 23 ⇨  
**बुंदिया**  
छोटी बूंद 88 12  
नुकती 203.16  
बूंद 88.11  
बूंदी 977 6  
**बुंदीरी**  
बूंदी 977 6  
**बुआ**  
फूफी 722.27  
**बुआ [बुई]**  
गोया [बोई] 548.50  
**बुआई**  
बुआई 548.7 ⇨  
**बुआई करना**  
बुआई करना 548.35 ⇨  
**बुआई कर्ता**  
गोने वाला 548 51  
**बुआ सास**  
फूफस 724 15  
**बुक (अँ)**  
पुस्तक 446.1  
लेखा पुस्तक 632 8  
**बुक कवर (अँ)**  
बुकक आवरण 418 6  
**बुककेस (अँ)**  
पुस्तक अलमारी 671 7  
**बुक्रथा**  
गठरी 674.2  
बड़ी गठरी 674.5

**बुक्रथी**  
गठरी 674 2  
दर्जी धैली 673 15  
**बुकटा**  
धिकोटी 918 15  
**बुकट्टा**  
धिकोटी 918.15  
घुटकी 150 22  
**बुकना**  
घूरा 938.17  
बुकनी 201 4  
**बुकनी**  
घूरन 178.16  
घूरा 938 17  
बुकनी 201.4 ⇨  
**बुकनु**  
बुकनी 201 4  
**बुक बाईंडर (अँ)**  
जिल्दसाज़ 418.11  
**बुक बाईंडिंग (अँ)**  
जिल्दसाज़ी 418.10  
**बुकरम**  
बुकरम 580.2 ⇨  
**बुक रितीज़ (अँ)**  
गुस्तक विनोचन 420.5  
**बुकरीट (अँ)**  
पुस्तिका 446.4  
**बुकवर्म (अँ)**  
किताबी / कीड़ा 122.15  
**बुकसेलर (अँ)**  
पुस्तक विक्रेता 420.6  
**बुक स्टैंड (अँ)**  
पुस्तक आधान 596 9  
**बुकिंग आफिस (अँ)**  
टिकट घर 471 2  
**बुके (अँ)**  
पुष्प गुच्छ 12.34  
**बुक्का फाड़ कर रोना**  
विलाप करना 386.23  
**बुखरिया**  
बुखारी 670.15  
**बुझार**  
आवेश 371.1  
ज्वर 163.19  
ज्वर ताप 163.21  
तीव्रान्माद 354.8  
संघित आवेश 371.3  
**बुझारी**  
कोलधी 614.6  
खसा 15.4  
बुझारी 670.15 ⇨  
**बुगाथा**  
गठरी 674 2  
बड़ी गठरी 674.5  
**बुगाथी**  
गठरी 674.2  
**बुग्गी**  
पशु ठेला 1071.9

**बुग्याल**  
घास मैदान 11 5  
**बुझारिल**  
कापुरुष 395.29  
**बुझारिली**  
कापुरुषता 395.12  
**बुझियाला**  
मदारी: जानवर 473.24  
**बुजुर्ग**  
गुरुजन समष्टि 722.1  
**बुजुर्ग**  
दादा परदादा [दादी परदादी] 722.4  
वयोवृद्ध 232 11  
वृद्ध पुरुष 232 4  
साधु संन्यासी 790.1  
**बुजुर्गिन**  
वृद्ध स्त्री 232 5  
**बुझा**  
आदि 126.13  
**बुझक्क**  
अटकलबाज़ 947 20  
लाल बुझक्क 302 3  
**बुझक्कड़ी**  
अटकलबाज़ी 947 4  
**बुझता दिया**  
प्रातः दीपक 285 15  
**बुझन**  
अग्नि शमन 108 6  
**बुझना**  
उत्साह भंग होना 492.8  
क्रोध भिटना 372.7  
धुंधलाना 286 13  
प्रशमित होना 372.6  
म्लान होना 120 7  
वेग कम होना 1043 13  
शोभाहीन होना 226.9  
समाधान होना 334.9  
**बुझा [बुझी]**  
अबलिष्ठ 159.12  
आलोकहृत 286.15  
धुंधला [धुंधली] 286.17  
प्रशमित 372 10  
**बुझा [बुझी] 108.18 ⇨**  
शोभाहीन 226.12  
स्फूर्तिहीन 492 14  
**बुझाई**  
बुझ 334.7  
**बुझाना**  
आग बुझाना 108.12  
दीप बुझाना 286.12  
**बुझापन**  
दुःखग्रस्तता 391.2  
शोभाहीनता 226.3  
**बुझापुन**  
स्फूर्तिहीनता 492.3  
**बुझा रंग**  
विषण रंग 289.24

**बुझीबल**  
पहेली 333 13  
बुझ 334.7  
**बुझीबल करना**  
बुझीबल करना 333.21 ⇨  
**बुझीबल कर्ता**  
बुझीबल कर्ता 333.26 ⇨  
**बुझक**  
ग्रास 181.26  
दंशान 181 21  
**बुझकना**  
दाँत गड़ाना 181 35  
**बुझका**  
ग्रास 181 26  
दंशान 181 21  
**बुझका [बुझकी]**  
दशित 181 65  
**बुझका भरना**  
दाँत गड़ाना 181 35  
**बुझगुड़ाना**  
बड़बड़ाना 428 15  
**बुड्डा**  
वृद्ध पुरुष 232 4  
**बुड्डी**  
वृद्ध स्त्री 232 5  
**बुड्डे खूल्द**  
अतीत जन 63 4  
**बुड्डे बुकिया**  
वृद्ध जन 232 3  
**बुड्डाना**  
काया शिथिल होना 159 8  
वृद्ध होना 232 7  
**बुड्डाप**  
जीवन तीन अवस्था सूची 229 16  
वृद्धता 232 2  
सठियायापन 353 13  
**बुड्डापे का सहारा**  
पुत्र 718 3  
**बुड्डापे की लाठी**  
पुत्र 718 3  
**बुकिया**  
चंद्रमा कलंक 8.8  
वृद्ध स्त्री 232 5  
**बुकिया (बोलचाल)**  
झुरी 134 11  
**बुकिया पुराण**  
धर्म पाखंड 825 3  
**बुड्डीती**  
वृद्धता 232 2  
**बुत**  
कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369.8  
देव मूर्ति 746 1  
प्रेमपात्र 369 4  
मूर्ति 406.1  
**बुत (ईशान)**  
बुद्ध मूर्ति 746.5  
**बुतका**  
दवात 416.26

**बुतकार**  
मूर्तिकार 406 18  
**बुतखाना**  
देव मंदिर 745 30  
**बुततारागी**  
मूर्ति निर्माण 598 8  
**बुतना**  
उत्साह भग होना 492 8  
**बुतपरस्त**  
प्रेमी 368 2  
मूर्ति पूजक 751.8  
**बुतपरस्ती**  
मूर्ति पूजा 751 7  
**बुतशिकन**  
मूर्ति भजक 539 20  
**बुतशिकनी**  
मूर्ति भजन 539 6  
**बुत होना**  
मदोन्मत्त होना 211 10  
**बुताना**  
आग बुझाना 108 12  
**बुत्ता**  
घकमा 819 9  
**बुदका**  
दवात 416 26  
**बुदबुद**  
फदका 91 7  
बड़बड़हट 428 8  
बुलबुला 88 14  
**बुदबुदा**  
फदका 91 7  
बुलबुला 88 14  
**बुदबुदाना**  
फेन बनना 88 18  
बड़बड़ाना 428 15  
**बुदबुदाय**  
फदकन 91 6  
**बुदबुदाहट**  
फदकन 91 6  
फदका 91 7  
बड़बड़हट 428 8  
**बुद्ध**  
गीतम बुद्ध 793 1  
जाग्रत 265 7  
ज्ञानी 305 30  
त्रिरत्न सूची 737 10  
बुद्ध मूर्ति 746 5  
बोध प्राप्त 301 29  
विष्णु चौबीस अवतार सूची 769 9  
विष्णु दस अवतार सूची 769 8  
**बुद्धः आत्मविश्वास**  
बुद्ध आत्मविश्वास 793 3 ⇨  
**बुद्धः चचेरा भाई**  
बुद्ध चचेरा भाई 793 11 ⇨  
**बुद्ध जयंती**  
बुद्ध जयंती 57 39 ⇨  
**बुद्धत्व**  
मोक्ष 257 1

**बुद्ध देव**  
गीतम बुद्ध 793 1  
**बुद्ध ब्रह्म**  
बुद्धः स्मृति चिह्न 793 5  
**बुद्धः धर्म**  
बौद्ध धर्म 737 6  
**बुद्धः पत्नी**  
बुद्धः पत्नी 793.9 ⇨  
**बुद्धः पिता**  
बुद्ध पिता 793.7 ⇨  
**बुद्धः पुत्र**  
बुद्ध पुत्र 793 10 ⇨  
**बुद्ध पूणिमा**  
नव वर्ष सूची 42 19  
**बुद्धः पूर्व अवतार**  
बोधिसत्त्व 793 15  
**बुद्धः पूर्व जन्म**  
बुद्ध पूर्व जन्म 793 2 ⇨  
**बुद्ध पूर्वजन्मः कथा संग्रह**  
जातक 740 2  
**बुद्धः माता**  
बुद्ध माता 793 8 ⇨  
माया देवी 793 13  
**बुद्ध मूर्ति**  
बुद्ध मूर्ति 746 5 ⇨  
**बुद्धयाद**  
बौद्ध धर्म 737 6  
**बुद्ध विषयक**  
बुद्ध विषयक 793 17 ⇨  
**बुद्धः शिक्षा**  
बुद्ध शिक्षा 793 4 ⇨  
**बुद्धः शिष्य सूची**  
बुद्ध शिष्य सूची 793 12 ⇨  
**बुद्धः समाधि शिला**  
बुद्ध समाधि शिला 793 6 ⇨  
**बुद्धः स्मृति चिह्न**  
बुद्ध स्मृति चिह्न 793 5 ⇨  
**बुद्धागम**  
बौद्ध धर्मग्रंथ 740 1  
**बुद्धायशेष स्तूप**  
स्तूप 255 10  
**बुद्धि**  
बुद्धि 774.57 ⇨  
बुद्धि 301 1 ⇨  
मन 351 2  
महत् तत्त्व 764 31  
व्यवहार कुशलता 828 3  
साष्टांग दंडवत अंग सूची 1060 9  
सुझाय 332 5  
**बुद्धि (दे.)**  
अतरिन्द्रिय 268 4  
**बुद्धि कौराल**  
बुद्धिमत्ता 301 5  
**बुद्धिगम्य**  
ज्ञेय 305 38  
तर्कगम्य 305 41  
**बुद्धिगम्यता वाद**  
ज्ञेयवाद 760 7

**बुद्धि ग्राह्य**  
तर्कगम्य 305 41  
**बुद्धिचक्षु**  
अंधा [अंधी] 164 8  
धृतराष्ट्र 771 65  
**बुद्धिजीवी**  
बुद्धिजीवी 301.22 ⇨  
**बुद्धि तत्त्व**  
महत् तत्त्व 764 31  
**बुद्धि दंत**  
अक्कल दाढ़ 144 8  
**बुद्धि देवता**  
अहुरमज़द 764 13  
**बुद्धिः देवता**  
बृहस्पति 789 22  
**बुद्धि घृत**  
शतरज 478 9  
**बुद्धि न होना**  
मूर्ख होना 302 5  
**बुद्धिपूर्वक**  
विचारितत 330 29  
सायधानत 497 6  
**बुद्धिभ्रम**  
भ्रम 342 1  
**बुद्धिभ्रष्ट**  
भ्रष्टधी 302 10  
**बुद्धिमंत**  
बुद्धिमान 301 21  
**बुद्धिमत्ता**  
बुद्धिमत्ता 301 5 ⇨  
**बुद्धिमान**  
बुद्धिमान 301.21 ⇨  
विद्वान 319 8  
**बुद्धिमान [बुद्धिमत्]**  
बुद्धिमान 301 21  
**बुद्धिमान व्यक्ति**  
बुद्धिमान व्यक्ति 301 6 ⇨  
**बुद्धिमान्नी**  
बुद्धिमत्ता 301 5  
**बुद्धियोग**  
ज्ञानयोग 756 8  
**बुद्धिवादी**  
विवेकवादी 325 25  
**बुद्धियान [बुद्धिवती]**  
बुद्धिमान. 301 21  
**बुद्धि विलास**  
मनोकल्पना 308 5  
**बुद्धिशाशिला**  
बुद्धिमत्ता 301.5  
**बुद्धि संगत**  
तर्कपूर्ण 325 21  
विज्ञान संगत 307 13  
**बुद्धि संस्थान**  
मस्तिष्क 140 9  
**बुद्धिसहाय**  
परामर्शक 332 14  
राजा मंत्री 889 20

## बुद्धि से परे

### बुद्धि से परे

अज्ञेय 308.13  
तर्कातीत 308.15

### बुद्धिहीन

मूर्ख 302.7

### बुद्धिहीनता

मूर्खता 302.1

### बुद्धिहीन होना

मूर्ख होना 302.5

### बुद्धीश्रिय

ज्ञानेन्द्रिय 268.5

मन 351.2

### बुद्धीय

बुद्धीय 301.20 ⇨

### बुद्ध

मूर्ख 302.7

सहज विश्वासी 340.16

### बुद्धपन

सहज विश्वासशीलता 340.4

### बुद्धपना

मूर्खता 302.1

### बुद्ध बनाना

मूर्ख बनाना 302.6

### बुद्धबव

बुलबुला 88.14

### बुध

ज्ञानी 305.30

देवता 772.1

नवग्रह सूची 261.14

गुण ग्रह 7.5

मूर्ति 406.1

सौर मंडल. ग्रह सूची 7.4

### बुध ग्रह

बुध ग्रह 7.5 ⇨

### बुधवार

बुधवार 46.6 ⇨

### बुधान

बुद्धिमान 301.21

बोध प्राप्त 301.29

### बुधित

ज्ञात 305.29

विचारित 330.19

### बुनकर

कपड़ा बुनकर 576.5

बुनाई कर्मी 576.2

बुनकर: जाति सूची

बुनकर जाति सूची 576.6 ⇨

### बुनकरी

कपड़ा बुनाई 576.4

### बुनली

निर्दिष्ट स्टिच 572.13

बुनती डिज़ाइन 572.15

### बुनती डिज़ाइन

बुनती डिज़ाइन 572.15 ⇨

### बुननहारा [बुननहारी]

बुनाई कर्मी 576.2

### बुनना

कपड़ा बुनना 576.25

बुनना 576.24 ⇨

संग्रहित करना 573.10

### बुनने वाला

बुनाई कर्मी 576.2

### बुना [बुनी]

बुना [बुनी] 576.27 ⇨

संग्रहित 573.15

### -बुना (जैसे: छटबुना)

बुनाई कर्मी 576.2

### बुनाई

कपड़ा बुनावट 576.11

बुनाई कर्म 576.1

रचना विन्यास 527.8

संग्रथन 573.1

स्वेटर बुनावट 576.10

बुनाई अक्षयनता

असघन बुनावट 576.14

### बुनाई उद्योग

बुनाई उद्योग 576.15 ⇨

### बुनाई करना

बुनना 576.24

### बुनाई कर्म

बुनाई कर्म 576.1 ⇨

### बुनाई कर्मी

बुनाई कर्मी 576.2 ⇨

### बुनाईवार

बुनावटदार 576.28

बुनाई: विधि सूची

बुनाई: विधि सूची 576.3 ⇨

### बुनाई स्थल

बुनाई स्थल 562.18 ⇨

### बुना कपड़ा

यस्त्र 579.1

### बुनायट

कपड़ा बुनावट 576.11

रचना विन्यास 527.8

### बुनावट: कूड़ा

फुयड़ा 569.3

### बुनावटदार

बुनावटदार 576.28 ⇨

### बुनायटी

बुनावटदार 576.28

### बुनियाद

आधार 596.1

आधार सूची 596.2

आरंभिक अवस्था सूची 994.23

नीर् 607.12

### बुनियाद: पत्थर

नीर् पत्थर 607.13

### बुनियादी

आधारभूत 1019.14

### बुनी धोकी

बुनी धोकी 595.18 ⇨

### बुभुक्षा

भुषा 180.1

### बुभुक्षित

भुषा कातर 180.16

### बुभुक्षु

क्षुधित 180.15

### बुरक

बुरकाव 668.12

### बुरकान

बुरकाव 668.12

### बुरकना

बुरकना 668.24 ⇨

### बुरका

घृणित 540.15

### बुरका

बुरका 591.4 ⇨

### बुरकाई

बुरकाव 668.12

### बुरका: नकाब

बुरका: नकाब 591.5 ⇨

### बुरकाना

बुरकना 668.24

### बुरकापोशा

अवगुंठनवती 591.12

### बुरकापोशा

परदानशीन 591.10

### बुरकापोशी

परदानशीनी 591.1

### बुरकाव

बुरकाव 668.12 ⇨

### बुरकाव (बै.)

छिड़काव 668.7

### बुरके वाली

अवगुंठनवती 591.12

### बुरके वाली

परदानशीन 591.10

### बुरशा [बुरशी]

कलित 543.14

### बुरशाई

कर्तन 543.1

### बुरा

अकल्याण 711.1

अहित 712.2

दुरधरित्र 811.5

व्यभिचारी 806.10

### बुरा [बुरी]

अकल्याणकारी 711.9

अनैतिक 816.4

अप्रिय 370.5

अरोधक 401.10

अयनत 535.5

असंगत 439.5

अहितकारी 712.15

घृणित 370.6

दुर्जन 818.5

दुर्यवहारी 831.10

दुष्कर्मी 812.15

बुरा [बुरी] 314.10 ⇨

सुरुचिहीन 401.17

### बुराई

अपकार 831.4

दुर्गुण 314.4

दुर्जनता 818.1

दुष्कर्मी 812.6

निंदा 843.1

निकृष्टता 314.1

शत्रुता 706.1

बुराई के रास्ते जाना

दुरधरित्र होना 811.4

बुरा: उपसर्ग सूची

बुरा: उपसर्ग सूची 314.11 ⇨

### बुरा करना

अपकार करना 831.9

### बुरा कहना

निंदा करना 843.14

### बुरा काम करना

दुष्कर्म करना 812.9

### बुरा कार्य

निकृष्ट कार्य 506.5

### बुरा चाहना

अकल्याण कामना करना 711.7

बुरा चाहने वाला

अकल्याण कामी 711.11

### बुरा जादू

अपकारक जादू 474.7

### बुराबना

घीयाकस से कसना 540.10

### बुराबा

कस 192.10

धूरा 938.17

बुराबा 938.31 ⇨

### बुराबा करना

घीयाकस से कसना 540.10

### बुरा पका

कुपरिपथित 195.68

### बुरापन

निकृष्टता 314.1

बुरा बरताव करना

दुर्यवहार करना 831.6

### बुरा भला

उन्नति अवनति 532.3

कल्याण अकल्याण 710.1

गाली 433.3

डॉट 373.11

लाभ हानि 846.1

विमर्श 330.11

बुरा भला [बुरी भली]

उत्तम अनुत्तम 313.10

बुरा भला कहना

कोसना 373.17

### बुरा मानना

थिड़ना 373.23

### बुरा लगना

अप्रिय होना 370.3

### बुरा बहना

अवनति काल 535.2

दुर्भाग्य 260.18

संकट काल 909.7

### बुरा व्यवहार

दुर्यवहार 831.1



बुरा सौचना  
अकल्याण कामना करना 711.7  
बुरा स्वभाव  
कुस्वभाव 838.1  
बुरा हाल  
दुर्दशा 827.8  
बुरा होना  
अकल्याण होना 711.6  
बुरी  
व्यभिचारिणी 808.11  
बुरी छबर  
कुस्वभावाचार 440.3  
बुरी घड़ी  
अमंगल काल 797.3  
बुरी तरह  
अति परिश्रम पूर्वक 483.15  
अत्यधिकता: 944.12  
विधिहीनता: 515.11  
बुरी नज़र  
नज़र 711.5  
बुरी बला  
संकट 909.1  
संकटप्रद वस्तु 909.8  
बुरी बात  
कुवचन 432.1  
बुरी संगत  
कुसंगति 696.6  
बुरी संगत में पढ़ना  
कुष्यसनी होना 812.10  
बुरी सलाह  
कुपरामर्श 332.2  
बुरी साहस  
अनिष्ट योग 281.30  
बुरी सीख  
बुरी सीख 332.8 ⇌  
बुरी सुहवत  
कुसंगति 696.6  
बुरा  
बोतल बुरा 678.5  
बुरे दिन  
अवनति काल 535.2  
बुरे से बुरा  
निकृष्टतम 314.7  
बुराई  
बुराई 591.4  
बुर्ज  
गुंबद 611.5  
गोल मंडप 600.10  
बुर्ज  
पहरा मीनार 908.7  
बुर्ज  
भवन शिखर 611.1  
बुर्जी  
गोल मंडप 600.10  
छोटा गुंबद 611.6  
पहरा मीनार 908.7  
भवन शिखर 611.1

बुर्ज  
आय 843.1  
बुर्जबारी  
सहिष्णुता 872.4  
बुर्जब  
आकारा 2.1  
उच्च 982.7  
बुर्जबपरबाज़  
महत्वाकांक्षी 508.9  
बुर्जबपरबाज़ी  
महत्वाकांक्षा 508.3  
बुर्जब भूमि  
बाग 552.7  
बुर्जब हिम्मत  
उच्च मनोबल 394.5  
बुर्जब हीसला  
उच्च मनोबल 394.5  
बुर्जबी  
उच्चता 982.1  
बुर्जबी पर  
उच्चतः 982.12  
बुल (औं)  
तेजक्रिया 828.16  
बुलडीज़र  
बुलडीज़र 563.17 ⇌  
बुलडीज़र (औं)  
बुलडीज़र 563.17  
बुलबुल  
गायक पक्षी सूची 126.9  
बुलबुल 126.59 ⇌  
बुलबुला  
कुमकुमा 571.48  
फदका 91.7  
बुलबुला 88.14 ⇌  
बुलबुलाय  
फदकन 91.6  
बुलबुला समूह  
फेन 88.15  
बुलबुलाइट  
फदकन 91.6  
फदका 91.7  
बुलबुले उठना  
फेन बनना 88.18  
बुलबाई  
आयाचन 1055.5  
बुलबायाना  
आयाचित करना 1055.8  
बुलबाया [बुलबाई]  
आयाचित 1055.16  
बुलबाई (औं)  
अङ्गवाल 1073.22  
बुलाना  
आवाहन करना 1055.7  
निर्मन्त्रित करना 1056.5  
संयोजित करना 683.8  
बुलाया [बुलाई]  
आवाहित 1055.11

बुलावनहार  
निमंत्रण वाता 1056.9  
बुलावा  
अज्ञान 751.9  
आवाहन 1055.1  
निमंत्रण 1056.1  
समन 875.17  
बुलावा आना  
मरणासन्न होना 249.21  
बुलावा भेजना  
निमंत्रण भेजना 1056.6  
बुलाइट  
आवाहन 1055.1  
बुलियन (औं)  
चौदी सोना 95.1  
बुलेटिन (औं)  
समाचार पत्र 445.1  
बुलेटिन बोर्ड (औं)  
प्रचार पट 442.13  
बुल्ला  
बुलबुला 88.14  
बुल्ल आई (औं)  
लक्ष्य केंद्र 931.7  
बुरा  
बुरा 1077.20 ⇌  
बुरा (औं)  
फुल्ली 1016.27  
बुरा 1077.20  
बुराल  
बुराल 959.54 ⇌  
बुराल (औं)  
बुराल 959.54  
बुरािंग (औं)  
बुरा 1077.20  
बुराई  
बुराई 585.31 ⇌  
बुराई (औं)  
बुराई 585.31  
बुसना  
दुर्गंध फैलाना 273.9  
बुसा [बुसी]  
दुर्गंधपूर्ण 273.16  
बुसा [बुसी] 197.46 ⇌  
बुस्त  
फल: छिलका 116.10  
बुहार  
झाड़ पोंछ 218.5  
बुहारन  
झाड़ कर्म 218.7  
बुहारन (दे.)  
कूका 214.3  
बुहारना  
बुहारना 218.31 ⇌  
संवरण करना 667.11  
बुहारने वाला  
बुहारने वाला 218.40 ⇌  
संवरण कर्ता 667.19

बुहारा  
बकी झाड़ू 218.18  
बुहारा [बुहारी]  
संवरित 667.18  
बुहारी  
झाड़ू 218.17  
बुहाक  
बुहारने वाला 218.40  
बूँद  
कण 938.2  
छीट बूँदकी 578.8  
बिंदु: छिन्न 968.2  
बूँद 88.11 ⇌  
वर्षा 54.5  
बूँद बूँद गिरना  
टपकना 1032.20  
बूँद भर  
पुट मात्र 1008.25  
बूँदा  
गुलदाना 203.9  
टिकका 938.20  
बकी बूँद 88.13  
बूँदा 228.23  
बूँदाबूँदी  
क्षणिक वर्षा 54.8  
क्षीण वर्षा 54.9  
बूँदी  
गुलदाना 203.9  
घनीरी 200.14  
छीट बूँदकी 578.8  
छोटी बूँद 88.12  
नुकती 203.16  
नुकती सूची 203.17  
बूँदी 977.6 ⇌  
बूँद पढ़ना  
वर्षा होना 54.17  
बू  
गंध 273.3  
दरपिता 858.6  
दुर्गंध 273.5  
बूआ  
फूफी 722.27  
बूक  
घुटकी 150.22  
बूकना  
पीसना 540.14  
बूका  
बूकक 148.8  
बूचक  
क्रसाई 206.43  
मांस विक्रेता 206.41  
बूचक छाना  
क्रसाई घर 206.42  
बूचा [बूची]  
कनकटा 153.16  
नन 590.16  
बूजार्जाना  
मद्य आसवन शाला 82.3

## बूजा

### बूजा

जी: मद्य 209.8

### बूजाखाना

मद्यराला 209.36

### बूझ

अटकल 947.3

अटकलबाजी 947.4

आंतरिक ज्ञान 305.4

बूझ 334.7 ⇨

बोध क्षमता 301.12

### बूझना

पहेली बूझना 334.11

बुझीपल करना 333.21

बोध करना 301.18

समाधान करना 334.10

### बूझ्य

बूझ्य 334.16 ⇨

### बूट

पीया 111.14

होले 200.10

### बूट (औं)

डिकी 1078.13

### बूटलैगर (औं)

मद्य तस्कर 884.40

### बूट शू

बूट शू 588.23 ⇨

### बूट शू (औं)

बूट शू 588.23

### बूटा

पीया 111.14

बूटा 578.15 ⇨

बूटी 176.4

### बूटा तुरंज

बूटा तुरंज 578.17 ⇨

### बूटा बूटी

छोट 578.7

### बूटी

बूटी 578.15

बूटी 176.4 ⇨

मौंग 210.1

### बूटी लेना

मौंग पीना 210.7

### बूटन (औं)

बूट शू 588.23

### बूटना

बूटना 1031.20

तल्लीन होना 331.9

### बूरा

बाक 22.1

### बूरा [बूरी]

बूरा [बूरी] 1031.31

### बूरा

बूट पुरुष 232.4

### बूरा [बूरी]

बयोबूट 232.11

### बूरा [बूरी]

बूट [बूट] 232.10

### बूरा खुराट

अति अनुभवी 303.18

### बूरापन

बूटता 232.2

### बूरी इव

ईदुल कितर 57.46

### बूरे

बूट जन 232.3

### बूता

क्षमता 487.7

वरा 899.13

### बूबम

मूर्ख 302.7

### बूदार

दुर्गंधपूर्ण 273.16

### बूबास

दुर्गंध 273.5

सुरागा 867.1

### बूम

तोप ध्वनि 296.20

### बूम (औं)

मस्तूल: आक 1073.13

### बूर

पूणित 540.15

फल: छिलका 116.10

बूर 528.11 ⇨

### बूरा

धूरा 938.17

बुरादा 938.31

बूरा 280.18 ⇨

### बू लेना

सूँघना 273.7

### बूष

सौंड 127.12

### बूषण

सौंड 127.12

### बूषध्वज

शिव 767.1

### बूषज्जन

गुरुजन समष्टि 722.1

विशिष्ट जन 728.13

### बूहत

बूहत 979.15 ⇨

### बूहत्-

बूहत 979.15

### बूहत्कथा

बूहत्कथा 450.12 ⇨

### बूहत्कर्ता

बूहत्कर्ता 979.16 ⇨

### बूहत्काय

महाकाय 154.22

### बूहत्तर भारत

दक्षिण एशिया 27.2

### बूहत्ता

बूहत्ता 979.1 ⇨

### बूहत्ता (दे.)

विस्तीर्णता 981.1

### बूहत्पुष्प

पेठा 189.27

### बूहत्फल

कटहल 189.9

### बूहद

महाकाय 154.22

### बूहद करना

बूहद करना 979.9 ⇨

### बूहदश्व

शिव 767.1

### बूहद होना

बूहद होना 979.8 ⇨

### बूहदवात्र

बूहदवात्र 152.5 ⇨

### बूहदवाकाश

अंतरिक्ष 2.3

### बूहदारण्यक

बूहदारण्यक 740.20 ⇨

### बूहदारण्यक उपनिषद्

उपनिषद् सूची 740.13

### बूहदीकरण

परिवर्धन 979.6

बूहदीकरण 979.2 ⇨

### बूहद्-

बूहत 979.15

### बूहद् कोण

बूहद् कोण 970.4

### बूहद्भानु

विष्णु 768.1

### बूहद्वथ /

इंद्र 773.5

सप्तर्षि मंडल 3.10

### बूहद् कोण

बूहद् कोण 970.4 ⇨

### बूहन्-

बूहत 979.15

### बूहभट

अर्जुन 771.36

### बूहभला

हिजका 238.5

### बूहभला (अज्ञातवास: नाम)

अर्जुन 771.36

### बूहस्पत

बूहस्पतिवार 46.7

### बूहस्पति

ऋषि मुनि सूची 789.17

गुरु 323.1

बूहस्पति 789.22 ⇨

बूहस्पति ग्रह 7.6

सौर मंडल. ग्रह सूची 7.4

### बूहस्पति ग्रह

बूहस्पति ग्रह 7.6 ⇨

### बूहस्पतिवार

बूहस्पतिवार 46.7 ⇨

### बेंग

मंडक 124.2

### बेंगची

मंडक: प्रारंभिक रूप 124.3

मंडक: शिशु 230.8

### बेंटा

मूट 598.24

### बेंटा: छिन्न

हत्वा: छिन्न 271.8

### बेंका [बेंकी]

वक्र 974.16

### बेंत

कमची 923.1

बेंत 923.8 ⇨

### बेंत की सजा

वेत्र दंड 870.6

### बेंतबाणी

अंताक्षरी 694.11

### बेंदा

टिकका 938.20

टीका 228.14

बकी बूट 88.13

### बेंदी

टिकली 977.12

### बेंदी

माथा. बिंदी 225.13

### बे-

अतिरिक्त 945.4

### बे

दो 948.19

### बे-

रहित: उपसर्ग सूची 1007.5

### बेअंत

अगाध्य 984.10

अनन्धर 37.9

असंख्य 944.8

ईश्वर 764.1

### बेअन्नल

मूर्ख 302.7

### बेअन्नली

मूर्खता 302.1

### बेअदब

असभ्य 734.14

धृष्ट 734.20

फूहक 403.5

### बेअदबी

असभ्यता 734.1

धृष्टता 734.8

### बेअसर

अप्रभावित 511.14

प्रभावहीन 511.18

### बेअसूल

आदर्शहीन 828.11

### बेअसूली

आदर्शहीनता 828.4

### बेआब

आलोकहल 286.15

### बेआबक

अपमानित 855.11

अप्रतिष्ठित 850.5

### बेआबकई

अप्रतिष्ठा 850.1

**बेदावी**  
 धृगलापन 286.8  
**बेदावाज**  
 ध्वनिहीन 295.4  
 ध्वनिहीनतः 295.6  
 मीन 429.22  
 मीनतः 429.29  
 वाचाहीन 429.25  
**बेदाहट**  
 ध्वनिहीनतः 295.6  
**बेईसाक**  
 अत्याचारी 835.13  
 न्याय अकर्ता 874.38  
**बेईसाक्री**  
 न्यायहीनता 874.3  
**बेइकबाल**  
 प्रतापहीन 850.7  
**बेइफ्रजत**  
 अपमानित 855.11  
 अप्रतिष्ठित 850.5  
**बेइल्म**  
 अशिक्षित 321.42  
**बेईमान**  
 असंत्यवादी 821.17  
 कृतघ्न 833.11  
 छली 827.24  
**बेईमान** 816.5 ⇨  
 विश्वासघाती 827.19  
**बेईमानी**  
 असत्यता 821.2  
 गबन 865.7  
 गलत तौल 962.5  
 छल 827.7  
 न्यायहीनता 874.3  
**बेईमानी** 816.2 ⇨  
**बेईमानी की कमाई**  
 कपट आय 643.6  
**बेएतबार**  
 अविश्वासी 341.7  
**बेएतबारी**  
 अविश्वास 341.1  
**बेओफ़ार**  
 उपकरणहीन 558.22  
**बेओलाव**  
 निस्स्तान 240.9  
**बेक**  
 नर बकरी 127.23  
**बे कण (प्र)**  
 बीटा कण 78.18  
**बेकदरा [बेकदरी]**  
 अगुणज्ञ 306.18  
**बेकदरी**  
 अपमान 855.1  
**बेकद्री**  
 अगुणज्ञता 306.9  
 असत्कार 185.1  
 उपेक्षा 185.2

**बेकरार**  
 अस्थिरचित्त 355.7  
 आतुर 496.11  
 आतुर प्रतीक्षक 1057.11  
 उद्दिग्ण 377.13  
 तरुपता [तरुपती] 392.30  
 धैर्यहीन 395.27  
 पीडाग्रस्त 392.28  
**बेकरारी**  
 आतुरता 496.3  
 आतुर प्रतीक्षा 1057.2  
 उद्दिग्णता 377.4  
 धितानुभूति 353.3  
 तरुपकाहट 392.14  
 धैर्यहीनता 395.10  
**बेकरी**  
**बेकरी** 109.15 ⇨  
**बेकरी (औ)**  
**बेकरी** 109.15  
**बेकस**  
 अस्थिरचित्त 355.7  
 आतुर 496.11  
 आतुर प्रतीक्षक 1057.11  
 उद्दिग्ण 377.13  
 तरुपता [तरुपती] 392.30  
 धैर्यहीन 395.27  
 पीडाग्रस्त 392.28  
 शोकग्रस्त 383.8  
**बेकसाइट**  
**बेकसाइट** 581.5 ⇨  
**बेकसाइट (औ)**  
**बेकसाइट** 581.5  
**बेकली**  
 आतुरता 496.3  
 आतुर प्रतीक्षा 1057.2  
 उद्दिग्णता 377.4  
 धितानुभूति 353.3  
 तरुपकाहट 392.14  
 धैर्यहीनता 395.10  
 शारीरिक पीडा 392.4  
**बेकस**  
 अनाथ 719.5  
 असहाय 701.8  
 क्षमताहीन 488.15  
 लँगड़ा लूला 153.20  
 विकलांग 153.15  
 विकल्पहीन 516.5  
 विवश 901.11  
 साधनहीन 558.20  
**बेकसी**  
 असहायता 701.2  
 क्षमताहीनता 488.4  
 विकल्पहीनता 516.3  
 विवशता 901.3  
 साधनहीनता 558.3  
**बेकचूर**  
 अपराधहीन 861.16

**बेकचूरी**  
 अपराधहीनता 861.3  
**बेकहा**  
 अकथित 429.20  
**बेकहाव**  
 असंयमी 809.9  
 मदोन्नत 211.15  
 विवश 901.11  
 स्वेच्छाचारी 809.7  
**बेकाम**  
 अनुपयोगी 525.8  
 कार्य अक्षम 488.16  
**बेकायदगी**  
 अव्यवस्थितता 894.5  
 असंगतता 439.1  
 विधिहीनता 515.1  
**बेकायदा**  
 अनियमित 71.11  
 नियम प्रतिकूल 879.19  
 विधिहीन 515.7  
**बेकार**  
 अनुपभोग्य 525.7  
 अनुपयोगी 525.8  
 अनुर्वर (भूमि) 552.17  
 अप्रयत्नशील 490.9  
 अफलित 118.17  
 अयोग्य 304.6  
 असफल 513.4  
 असफलतः 513.5  
 आजीविकाहीन 649.11  
 कार्य अक्षम 488.16  
 प्रतिफलहीन 510.14  
 प्रभावहीन 511.18  
 रदीकृत 526.17  
 लाभहीन 649.12  
**बेकार का**  
 बकवासपूर्ण 428.25  
**बेकार का काम**  
 व्यर्थ कार्य 506.3  
**बेकार चीज़**  
 अनुपयोगी वस्तु 526.1  
**बेकार जाना**  
 उपमुक्त न होना 525.4  
 लक्ष्य ध्युत होना 931.19  
**बेकार बहस**  
 वितंडा 324.5  
**बेकार ही**  
 प्रयोजनहीनतः 509.5  
**बेकार होना**  
 आजीविकाहीन होना 649.6  
 कार्य क्षमता खोना 488.8  
**बेकारी**  
 आजीविकाहीनता 649.3  
**बेकिंग**  
**बेकिंग** 195.27 ⇨  
**बेकिंग (औ)**  
**बेकिंग** 195.27

**बेकाटक**  
 अनारक्षित 378.7  
**बेकाटके**  
 अगुप्तात 822.34  
 निरिधिततः 378.10  
 संकोचहीनतः 846.9  
 संदेहहीनतः 340.23  
 साहसपूर्वक 394.18  
**बेकाडके**  
 ध्वनिहीनतः 295.6  
**बेकातर**  
 साहसपूर्वक 394.18  
**बेकाता**  
 अपराधहीन 861.16  
 अपराधहीनतः 861.17  
 लक्ष्यानुगामी 931.22  
**बेकाबर**  
 असावधान 498.6  
 घेतनाहीन 264.20  
 तल्लीन 331.14  
**बेकाबरी**  
 अनभिज्ञता 306.6  
 घेतनाहीनता 264.2  
 तल्लीनता 331.6  
 विस्मृति 357.4  
**बेकायाली**  
 असावधानी 498.1  
 उदासी 380.5  
 तल्लीनता 331.6  
**बेकाव**  
 आत्मलीन 331.15  
 तल्लीन 331.14  
**बेकावी**  
 आत्मलीनता 331.7  
 तल्लीनता 331.6  
 मद 211.1  
 समाधिस्थता 755.4  
**बेकाक्री**  
 संकोचहीनतः 846.9  
 साहसपूर्वक 394.18  
**बेग**  
 दल नायक 852.6  
 सामंत 882.32  
**बेग (तुर्क)**  
 प्रांत प्रशासक 882.31  
**बेगड़ी**  
 हीरातरारा 566.6  
**बेगम**  
 कुलीन स्त्री 728.7  
 पत्नी 803.6  
 राजा पत्नी 882.17  
 विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.6  
**बेगम**  
 शोकहीन 382.24  
**बेगम**  
 स्वयं रानी 882.19  
**बेगार्ज**  
 प्रयोजनहीन 509.3

## बेगार्जी

स्वार्थहीन 712.18

### बेगार्जी

स्वार्थहीनता 712.7

### बेगानगी

अपरिधितता 697.5

इतरता 945.2

निश्चितता 378.2

परजन भावना 725.4

### बेगाना [बेगानी]

अपरिधित 697.16

इतर 945.5

परजन भावनापूर्ण 725.8

### बेगानापन

अपरिधितता 697.5

इतरता 945.2

परजन भावना 725.4

### बेगार

अस्वेच्छित कर्म 650.8

बेगार कृषक 553.26

बेगार श्रम 643.20

बेगार श्रमिक 643.21

व्यर्थ कार्य 506.3

### बेगार कृषक

बेगार कृषक 553.26 ⇐

### बेगार टालना

अस्वेच्छित कर्म करना 650.15

### बेगार श्रम

बेगार श्रम 643.20 ⇐

### बेगार श्रमिक

बेगार श्रमिक 643.21 ⇐

### बेगारी

बेगार श्रम 643.20

### बेगिने

असंख्यतः 944.13

### बेगुनाह

अपराधहीन 661.16

### बेगुनाही

अपराधहीनता 661.3

### बेगुमान

अवश्यमेव 68.21

संदेहहीनतः 340.23

### बेगीरत

अस्वामिमानी 859.7

लज्जाहीन 846.8

### बेगीरती

अस्वामिमान 859.2

लज्जाहीनता 846.1

### बेघर

खानाबदोश 1090.44

परिवारहीन 726.15

### बेघरवार

आवासहीन 617.11

खानाबदोश 1090.44

परिवारहीन 726.15

सर्वहारा 627.23

### बेघरबारी

आवासहीनता 617.1

खानाबदोशी 1090.5

परिवारहीनता 726.4

### बेघरा [बेघरी]

खानाबदोश 1090.44

### बेघरी

आवासहीनता 617.1

खानाबदोशी 1090.5

परिवारहीनता 726.4

### बेघ

विक्रय 661.1

### बेघक

विक्रेता 661.2

### बेघनहार

विक्रेता 661.2

### बेघना

नीलाम करना 659.16

बेघना 661.20 ⇐

### बेघने वाला

विक्रेता 661.2

### बेघा [बेघी]

विक्रीत 661.21

### बेघाप

ध्वनिहीनतः 295.6

### बेघार

विकलांग 153.15

विवश 901.11

### बेघारगी

असहायता 701.2

दुःखग्रस्तता 391.2

वियशता 901.3

### बेघारा [बेघारी]

असहाय 701.8

कंगाल 627.21

कातर 380.11

दुःखी 391.24

दुर्दशाग्रस्त 627.22

नगण्य 853.10

विकल्पहीन 516.5

विवश 901.11

साधनहीन 558.20

### बेघिराता

निस्संतान 240.9

### बेघी

विक्रय 661.1

### बेघू

विक्रेता 661.2

### बेघूक

लक्ष्य पर 931.26

लक्ष्यानुगामी 931.22

सावधानतः 497.6

### बेघन

आतुर 496.11

आतुर प्रतीक्षक 1057.11

उद्दिग्ध 377.13

तरुपता [तरुपती] 392.30

धैर्यहीन 395.27

पीकाग्रस्त 392.28

### बेघन मूलात्मा

मृत 786.1

### बेघन होना

कुलबुलाना 392.17

तरुपता 392.20

### बेघनी

आतुरता 496.3

आतुर प्रतीक्षा 1057.2

उद्दिग्धता 377.4

कुलबुलाहट 392.2

तरुपकाहट 392.14

धैर्यहीनता 395.10

शारीरिक पीडा 392.4

### बेघनान

दयनीय 834.16

### बेघनानी

मीन भाव 429.3

### बेघवाब

निरुत्तर 335.10

### बेघा

असंगत 439.5

संदर्भहीन 439.7

### बेघान

अपीधित 247.8

अप्रबल 488.14

अबलिष्ठ 159.12

गतिहृत 1047.21

मृतप्राय 249.29

स्फूर्तिहीन 492.14

### बेघान होना

गतिहृत होना 1047.14

### बेघाना [बेघानी]

अपरिधित 697.16

### बेघाबता

नियम प्रतिकूल 879.19

विधिहीन 515.7

### बेघायका

कुस्वादिष्ठ 275.22

### बेघायकता

स्वादिहीन 275.16

### बेघार

अप्रसन्न 381.10

उद्दिग्ध 377.13

ऊबा [ऊबी] 401.14

क्रुद्ध 373.28

खिन्न 380.10

दुःखी 391.24

परेशान 519.21

### बेघारी

अप्रसन्नता 381.3

उद्दिग्धता 377.4

क्रोध 373.1

रुष्टि 374.2

### बेघुका [बेघुकी]

युतिहीन 1010.25

### बेघुकापन

युतिहीनता 1010.12

### बेघोक

अनुपम 312.17

असंगत 439.5

### बेघोकपन

अनुपमता 312.4

### बेघोक

कुडील 155.5

### बेघोक

फूडक 403.5

### बेघोक्री

फूडकपन 403.2

### बेघ

लक्ष्य वेध 931.10

### बेघना

लक्ष्य वेधना 931.17

### बेघना

लक्ष्य वेध 931.10

### बेटकर

अनुपम 312.17

### बेटन (जै)

राजदंड 408.14

### बेटया

पुत्र 718.3

### बेटा

पुत्र 718.3

बेटा पोता [बेटी पोती]

बेटा पोता [बेटी पोती] 722.12 ⇐

### बेटा बेटी

संतान 718.1

संतान समष्टि 718.2

### बेटी

पुत्री 718.10

### बेटी का बाप

वधुः पिता 801.3

### बेटी जैती

पुत्रीतुल्य 720.24

### बेटी देना

पुत्री का विवाह करना 799.47

### बेटी पोती

संतान समष्टि 718.2

### बेटी बेटा

संतान समष्टि 718.2

### बेटी ब्याहना

पुत्री का विवाह करना 799.47

### बेटी लेना

पुत्र का विवाह करना 799.46

### बेटी बाला

वधुः पिता 801.3

### बेटे का बाप

वरः पिता 801.5

### बेटे जैता

पुत्रतुल्य 720.23

### बेटे पोते

लघुजन समष्टि 722.2

संतान समष्टि 718.2

### बेटे बेटी

संतान समष्टि 718.2

### बेटे बाला

वरः पिता 801.5

### बेटों वाली

पुत्रवती 239.12

**बेठन**  
बस्ता 673.11  
बेठन 415.13 ⇨  
**बेठिकाना**  
अप्रासंगिक 439.8  
अविश्वसनीय 341.8  
**बेठिकाने**  
अनुपयुक्त अवसर पर 70.17  
संदर्भहीन 439.7  
**बेठ**  
धाला 551.23  
**बेठ**  
बाढ़ 604.10  
**बेठयी**  
बेठयी 202.29 ⇨  
**बेठा**  
नीका 1072.2  
फ़लीट 932.27  
बेठा 1072.51 ⇨  
समुद्र पोत 1072.40  
**बेठा पार होना**  
सफल होना 512.3  
**बेठिन**  
नटी 473.11  
नर्तकी 462.14  
**बेठिनी**  
नर्तकी 462.14  
**बेठी**  
बेठी 868.25 ⇨  
रक्षा नीका 1072.32  
**बेठी डालना**  
बेठी पहनाना 868.33  
**बेठी पहनाना**  
बेठी पहनाना 868.33 ⇨  
**बेठीबंद**  
बेठीबंद 868.39 ⇨  
**बेठी बंदी**  
बेठी बंदी 868.8 ⇨  
**बेठीबंदी**  
बेठी बंदी 868.8  
**बेठीबद्ध**  
बेठीबंद 868.39  
**बेठील**  
कलाहीन 403.4  
कुडील 155.5  
कुरूप 156.4  
**बेठीलपन**  
कुडीलता 155.3  
**बेठंगा [बेठंगी]**  
असंगत 439.5  
असम्य 734.14  
कठिन 519.18  
कलाहीन 403.4  
क्रमहीन 992.5  
फूहड़ 403.5  
विधिहीन 515.7  
**बेठंगा काम करना**  
विधि पालन न करना 515.5

**बेठंगापन**  
कुशैलता 589.5  
विधिहीनता 515.1  
**बेठंगे**  
क्रमहीनतः 992.7  
**बेठ**  
घेराई 804.8  
**बेठई**  
बेठयी 202.29  
**बेठव**  
कठिन 519.18  
कूट 823.12  
प्रबल 487.24  
भयानक 395.25  
विकराल 154.23  
विधिहीन 515.7  
संकटात्मक 909.21  
हठी 349.14  
**बेठा**  
अहाता 604.3  
**बेतकल्लुफ़**  
अनीपचारिक 185.9  
बेपरदा 590.19  
सकोचहीनतः 846.9  
**बेतकल्लुफ़ाना**  
अनीपचारिक 185.9  
**बेतकल्लुफ़ी**  
अनीपचारिकता 185.3  
बेपर्दगी 590.12  
**बेतमीज़ी**  
असम्यता 734.1  
घुष्टता 734.8  
**बेतरतीब**  
अव्यवस्थित 894.9  
क्रमहीन 992.5  
क्रमहीनतः 992.7  
योजनाहीन 520.21  
**बेतरतीबी**  
अनियमितता 71.3  
अव्यवस्थितता 894.5  
क्रमहीनता 992.1  
**बेतरह**  
अति परिश्रम पूर्वक 493.15  
अत्यधिकतः 944.12  
असंख्य 944.8  
दुनिवार्य 919.10  
विधिहीनतः 515.11  
**बेतरीला**  
नियम प्रतिकूल 879.19  
विधिहीन 515.7  
**बेतरीले**  
विधिहीनतः 515.11  
**बेतहज़ीबी**  
असम्यता 734.1  
**बेतहारा**  
असंख्य 944.8  
असंख्यतः 944.13

**बेताब**  
अस्थिरचित 355.7  
आतुर 496.11  
आतुर प्रतीक्षक 1057.11  
उद्दिग्न 377.13  
धैर्यहीन 395.27  
**बेताबी**  
आतुरता 496.3  
आतुर प्रतीक्षा 1057.2  
उद्दिग्नता 377.4  
धैर्यहीनता 395.10  
**बेताल**  
तालहीन 458.60  
प्रशंसा गायक 841.33  
वेताल 786.11  
शिव. पुत्र सूची 767.22  
**बेताला [बेताली]**  
तालहीन 458.60  
**बेतालापन**  
तालहीनता 458.26  
**बेताली**  
वेतालीय 786.17  
**बेतासीर**  
प्रभावहीन 511.18  
**बेतुक**  
अतुकांत 452.58  
**बेतुका**  
तर्कहीन 325.22  
**बेतुका [बेतुकी]**  
अतुकांत 452.58  
असंगत 439.5  
बकवासपूर्ण 428.25  
संदर्भहीन 439.7  
**बेतुकापन**  
संदर्भहीनता 439.3  
**बेतुकी बात**  
बकवास 428.7  
**बेदख़ल**  
विस्थापित 1036.13  
**बेदख़ली**  
बेदख़ली 1036.6 ⇨  
**बेदम**  
अदृढ़ 159.16  
अप्रबल 488.14  
अबलिष्ठ 159.12  
मृतप्राय 249.29  
स्फूर्तिहीन 492.14  
हॉफता [हॉफती] 245.28  
**बेदम होना**  
हॉफना 245.22  
**बेदमी**  
हॉफ 245.14  
**बेदमुरक**  
बंत 923.8  
**बेदरोबीघार**  
अपरिसीमित 1001.38  
आवासहीन 617.11

**बेदरोबीघारी**  
आवासहीनता 617.1  
**बेदर्द**  
अत्याचारी 835.13  
निर्दय 835.10  
हिंसक 251.31  
**बेदर्दी**  
कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369.8  
निर्दय 835.10  
**बेदाग**  
अनाहत 168.8  
**बेदाग**  
अपराध मुक्त 869.9  
**बेदाग**  
अपराधहीन 861.16  
परिपूर्ण 313.14  
सुरक्षिततः 908.29  
**बेदाना**  
बीजहीन 112.20  
**बेदाग**  
निरशुल्क 665.8  
निरशुल्कतः 665.9  
**बेदामी**  
निरशुल्कता 665.3  
**बेदार**  
जाग्रत 265.7  
**बेदारी**  
चेतना 263.4  
जागरुकता 301.15  
**बेदिल**  
अप्रसन्न 381.10  
उदास 380.14  
कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369.8  
छिन्न 380.10  
भग्नहृदय 391.33  
स्फूर्तिहीन 492.14  
हताश 376.6  
**बेदिली**  
उत्साहहीनता 492.1  
उदासी 380.5  
**बेदी**  
वेदी 745.45  
**बेदीब**  
उपेक्षक 185.8  
कृतघ्न 833.11  
निष्ठाहीन 827.16  
**बेदीन**  
धर्महीन 735.15  
**बेदीघार**  
अपरिसीमित 1001.38  
**बेध**  
अंतर्वधित छिद्र 271.2  
छिद्र 271.6  
लक्ष्य घेघ 931.10  
**बेधक**  
अगुप्ततः 822.34  
संकोचहीनतः 846.9  
संदेहहीनतः 340.23

## वेधना

साहसपूर्वक 394.18  
साहसी 394 13  
**वेधना**  
लक्ष्य वेधना 931.17  
**वेधाक**  
प्रतापहीन 850.7  
**वेधिया**  
अंकुरा 555.20  
**वेध्यान**  
आत्मलीन 331.15  
ध्यानहीन 331.13  
**वेध्यानी**  
ध्यानहीनता 331.3  
**वेध्यानी में**  
विचारहीनता: 330 30  
**वेन (गुजराती)**  
नामांत स्त्री उपाधि सूची 856.9  
**वेनकाम**  
वेपरदा 590 19  
**वेनकामी**  
छद्महीनता 822 11  
वेपर्दगी 590.12  
**वेनट**  
वेयोनट 927.6  
**वेनसीब**  
दुर्भाग्यशाली 260.34  
**वेनसीबी**  
दुर्भाग्य 260.18  
**वेना**  
गौडर घास मूल 112.15  
**वेनागा**  
हमेशा 1049.17  
**वेनाम**  
अख्यात 848.5  
अप्रतिष्ठित 850.5  
नामहीन 315 14  
**वेनामी**  
अख्याति 848.2  
**वेनामोनिशी**  
अख्यात 848 5  
**वेनियाज़**  
लोभहीन 360.15  
**वेनियाज़ी**  
अवज्ञा 348.1  
उपेक्षा 185.2  
**वेनी**  
धारा 21.14  
वेणी 223.17  
**वेनु**  
बॉस 597.8  
बॉसुरी 461.83  
**वेनूर**  
आलोकहृत 286 15  
**वेपका [वेपकी]**  
अशिक्षित 321.42  
निरक्षर 320.5  
**वेपनाह**  
दुर्नियार्य 919.10  
1342

**वेपर**  
पंखहीन 153.21  
**वेपरवा**  
अनावृत 822.29  
वेपरदा 590.19 ⇌  
**वेपरवा**  
अलमस्त 382.23  
**वेपरवाह**  
अवज्ञा कर्ता 348.7  
निश्चित 378.8  
**वेपरवाही**  
उपेक्षा 185.2  
निश्चितता 378.2  
**वेपर्दगी**  
वेपर्दगी 590.12 ⇌  
वेपर्दा  
अगुप्त 822.28  
अनावृत 822.29  
वेपरदा 590.19  
**वेपीर**  
कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369 8  
निर्दय 835.10  
**वेकसल**  
अकालजात 82.18  
अनुपयुक्त अवसर पर 70.17  
असमयानुसारतः 62.23  
**वेक्यायदा**  
असफल 513.4  
प्रयोजनहीन 509.3  
लामहीन 649.12  
**वेकिक**  
अनाशंकित 378.7  
निश्चित 378.8  
**वेकिका**  
अलमस्त 382.23  
**वेकिका [वेकिकी]**  
निश्चित 378.8  
**वेकिकी**  
अलमस्ती 382.7  
निश्चितता 378.2  
**वेबरबाशती**  
असहन 873 5  
**वेबस**  
अधिकारहीन 898.3  
अनाथ 719.5  
अबलिष्ठ 159 12  
असहाय 701 8  
क्षमताहीन 488.15  
पराधीन 901.8  
लैंगका लूला 153.20  
विकलांग 153.15  
विकल्पहीन 516.5  
विषय 901 11  
साधनहीन 558.20  
**वेबसी**  
अधिकारहीनता 898.1  
असहायता 701.2  
विषयता 901.3

साधनहीनता 558.3  
**वेबाक**  
भुगतान कृत 634.25  
**वेबाक**  
साहसी 394.13  
स्पष्ट वक्ता 430.19  
**वेबाकी**  
घृष्टता 734.8  
**वेबाकी**  
भुगतान 634.3  
**वेबाकी**  
लज्जाहीनता 846.1  
स्पष्ट कथन 430.3  
**वेबी (अँ)**  
शिशु 230.3  
**वेबी कीट (अँ)**  
शिशु पालना 1034.18  
**वेबी साइज़**  
वेबी साइज़ 961.9 ⇌  
**वेबी साइज़ (अँ)**  
वेबी साइज़ 961.9  
**वेबुनियाव**  
कमोल कल्पित 308.19  
तथ्यहीन 821.22  
निराधार 1019.16  
**वेभाव**  
अत्यधिकतः 944.12  
असंख्य 944.8  
असंख्यतः 944.13  
**वेभज़गी**  
स्वादहीनता 275.5  
**वेभज़ा**  
अरोचक 401.10  
अस्वादिष्ठ 275.21  
रसहीन 84.18  
स्वादहीन 275.16  
**वेभलब**  
अनुपयोगी 525.8  
अर्थहीन 426.28  
कारणहीनतः 507.8  
प्रयोजनहीन 509.3  
**वेभन का**  
नापसंद 401.9  
**वेभन से**  
अनुद्यततः 492.20  
**वेभरम्मत**  
जीर्ण शीर्ण 536.12  
**वेभहल**  
अवसर प्रतिकूल 70.15  
**वेभानी**  
अनुपयोगी 525.8  
अर्थहीन 426.28  
लामहीन 649.12  
**वेभालूम**  
अत्यल्प 942.16  
**वेभिलावट**  
खरा [खरी] 98.12  
विशुद्ध 219.7

**वेभिसाल**  
अनुपम 312.17  
**वेभुरती**  
अवधिहीन 39.10  
**वेभुरब्बती**  
घृष्टता 734.8  
**वेभुरीवत**  
उपेक्षक 185.8  
घृष्ट 734.20  
निष्ठाहीन 827.16  
**वेभुरीवती**  
उपेक्षा 185.2  
निष्ठाहीनता 827.1  
**वेभेल**  
असंगत 439.5  
संदर्भहीन 439.7  
सामंजस्यहीन 701.9  
**वेभोक्रा**  
अनुपयुक्त अवसर 70.4  
अवसर प्रतिकूल 70.15  
संदर्भहीन 439.7  
**वेभोक्रि**  
अनुपयुक्त अवसर पर 70.17  
**वेभोसम**  
अकालजात 82.18  
अनुपयुक्त अवसर पर 70.17  
असमयानुसारतः 62.23  
**वेभोसमी**  
ऋतु कालेतर 51.17  
**वेयरिंग**  
वेयरिंग 1077.21 ⇌  
**वेयोनट**  
वेयोनट 927.6 ⇌  
**वेयोनट (अँ)**  
वेयोनट 927.6  
**वेरंग**  
अरंजित 291.15  
अरोचक 401.10  
**वेर**  
खाद्य फल सूची 190.2  
पारी 70.9  
बारी 70.8  
वेर 190.28 ⇌  
**वेरजा**  
गंधा विरोजा 1012.10  
**वेर वेर**  
पुनः 73.5  
**वेरस**  
अस्वादिष्ठ 275.21  
रसहीन 84.18  
स्वादहीन 275.16  
**वेरडम**  
निर्दय 835.10  
हिंसक 251.31  
**वेरहमी**  
निर्दयता 835.2  
**वेरा**  
अवसर 70.1

बेराब  
मतहीन 344.11  
बेराहा  
मार्गध्युत 1099.8  
बेरिंग (औं)  
बेयरिंग 1077.21  
बेरी  
खाद्य फल सूची 190.2  
बेर 190.28  
बेरी 190.29 ⇌  
बेरुका  
उपेक्षक 185.8  
विरोधी 886.7  
बेरुकी  
उपेक्षा 185.2  
रुष्टि 374.2  
बेरेरा  
दाही मूँछ हीन 136.9  
बेरोक  
अवरोधहीनतः 1049.23  
अविराम 1049.10  
बेरोकटोक  
अनिषिद्धतः 880.15  
संकोचहीनतः 846.9  
बेरोजगार  
आजीविकाहीन 649.11  
बेरोजगारी  
आजीविकाहीनता 649.3  
बेरोब  
प्रतापहीन 850.7  
बेरीनक  
शोभाहीन 226.12  
बेरीनक्री  
शोभाहीनता 226.3  
बेल  
कड़ाई बेल 578.14  
खाद्य फल सूची 190.2  
फावका 559.24  
बिल्व 190.27  
बेलचा 559.27  
बेल पट्टी 571.45  
लता 111.17  
वंश 727.1  
बेलगाम  
घृष्ट 734.20  
निरंकुश 881.40  
मुँहजोर 708.15  
बेलगाम बोलना  
वाचाल होना 428.12  
बेलगामनी  
वाचालता 428.5  
बेलचा  
पेडल वील 1073.4  
बेलचा 559.27 ⇌  
बेलचा चाक  
पेडल वील 1073.4  
बेलची  
पलटा 681.10

बेलबाब  
खनि कर्मी 1018.8  
बेलन  
धुनकीः बेलन 562.3  
बेलन 560.5 ⇌  
सिलंडराकार पिंड 976.10  
बेलन कर्म  
बेलाई 545.14  
बेलना  
बेलन 560.5  
बेलना 545.25 ⇌  
बेलनाकार  
सिलंडराकार 976.23  
बेलनी  
ओटनी 562.1  
बेल पट्टी  
बेल पट्टी 571.45 ⇌  
बेलबूटा  
कड़ाई काम 577.14  
बेलबूटा 578.13 ⇌  
बेलबूटाः कड़ाई  
गुलकारी 577.15  
बेलबूटे  
गुलकारी 577.15  
बेलरी  
लता 111.17  
बेला  
अंतराल 33.9  
आहार काल 199.1  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
काल 36.1  
घंटा 50.8  
तट 25.8  
तरंग 1040.1  
नदी तट 25.11  
नियत काल 39.1  
पहर 49.1  
बालू तट 25.18  
बेला 14.20 ⇌  
बेला तट 25.21  
लहर 1040.17  
वायलिन 461.76  
विश्राम काल 494.2  
समुद्र तट 25.9  
समुद्री बेला तट 25.22  
समुद्री लहर 1040.18  
साअत 49.12  
सीमा 1001.1  
बेलाई  
बेलाई 545.14 ⇌  
बेलाई करना  
बेलना 545.25  
बेला जल  
ज्वार 1040.26  
बेला तट  
तट 25.8  
बेला तट 25.21 ⇌

बेला पथ  
बेला पथ 1066.12 ⇌  
बेला प्रांत  
समुद्री बेला तट 25.22  
बेला मार्ग  
बेला पथ 1066.12  
बेलायल  
पत्नी 803.6  
प्रेमपात्रा 369.5  
प्रेमी 368.2  
बेला वितरण  
डेल्टा 21.24  
बेला संगम  
नदी विलय 21.25  
बेलाहाज  
अवसरवादी 827.18  
उपेक्षक 185.8  
लज्जाहीन 846.8  
बेली  
प्रेमपात्र 369.4  
सहायता दाता 700.25  
बेलुलक  
अरोधक 401.10  
अस्वादिष्ठ 275.21  
स्वादहीन 275.16  
बेलुलकी  
अरोधकता 401.1  
स्वादहीनता 275.5  
बेलीस  
निश्चित 378.8  
स्वार्थहीन 712.18  
बेबलत  
अप्रतिष्ठित 850.5  
बेबलत होना  
अऱ्यमित होना 71.7  
बेबलक  
छलित 827.23  
बेबलक  
मूर्ख 302.7  
बेबलकी  
मूर्खता 302.1  
बेबलत  
अनुपयुक्त अवसर पर 70.17  
असमयानुसारतः 62.23  
बेबगी  
वैधव्य 804.14  
बेबजह  
प्रयोजनहीनतः 509.5  
बेबका  
मदोन्मत 211.15  
मृद्य 209.1  
मद्यासक्त 209.44  
बेबका  
कृतघ्न 833.11  
निष्ठाहीन 827.16  
निष्ठाहीन (प्रेमपात्र) 369.9  
मित्रद्रोही 827.20  
वचन भंग कर्ता 338.48

बिश्वासघाती 827.19  
बेबकाई  
कृतघ्नता 833.4  
निष्ठाहीनता 827.1  
प्रतिज्ञा भंग 338.17  
बिश्वासघात 827.4  
बेबल बीयरिंग  
बेबल बीयरिंग 1077.24 ⇌  
बेबल बीयरिंग (औं)  
बेबल बीयरिंग 1077.24  
बेबलरिया  
लेखापाल 832.32  
बेबहार  
व्यवहार 828.1  
बेबा  
विधवा 804.15  
बेबापन  
वैधव्य 804.14  
बेबास्ता  
प्रयोजनहीनतः 509.5  
बेबा  
अधिक 944.5  
बेबाकर  
असम्भतः 734.24  
फूहक 403.5  
बेबाकरी  
असम्भता 734.1  
घृष्टता 734.8  
फूहकपन 403.2  
बेबाक  
अवश्यमेव 68.21  
अवश्यमेव. उक्ति सूची 68.23  
संदेहहीनतः 340.23  
बेबाक्रीमती  
बहुमूल्य 664.31  
बेबारम  
लज्जाहीन 846.8  
बेबार्त  
अपरतुकतः 339.51  
बेबार्म  
नग्न 590.16  
लज्जाहीन 846.8  
बेबार्नी  
अंग प्रदर्शन 590.7  
लज्जाहीनता 846.1  
संकोचहीनता 846.2  
बेबार्नी से  
संकोचहीनतः 846.9  
बेबारी  
अधिक 944.5  
अधिकता 944.1  
बेबुबह  
अवश्यमेव 68.21  
बेबुबार  
असंख्य 944.8  
असंख्यतः 944.13  
बेबुबारी  
असंख्यता 944.3

## बेशौक्र

**बेशीक्र**  
अरसिक 833 15  
**बेशीक्रीनी**  
अरसिकता 838 7  
**बेस (अँ)**  
आधार 596.1  
**बेसन**  
बेसन 192 6 ⇨  
**बेसबाब**  
कारणहीनत 507 8  
प्रयोजनहीनत 509 5  
**बेसबरापन**  
आतुरता 496 3  
**बेसबाल**  
बेसबाल 477 11 ⇨  
बेसबाल 479 11 ⇨  
**बेसबाल (अँ)**  
बेसबाल 477 11  
बेसबाल 479 11  
**बेसभ्र**  
आतुर 496 11  
घैर्यहीन 395 27  
**बेसमझ**  
अवयस्क 229 22  
**बेसमैट (अँ)**  
तहखाना 612 2  
**बेसर**  
नथ 228 15  
**बेसरा**  
खपचर 127 32  
**बेसरो सामान**  
उपकरणहीन 558 22  
सामानहीन 666 12  
**बेस लाइन (अँ)**  
आधार भुजा 968 30  
**बेसलीक्रा**  
असभ्य 734 14  
असभ्यत 734 24  
**बेसया**  
वेश्या 807 5  
**बेसयाई**  
वेश्या वृत्ति 807 2  
**बेसहार**  
अनाथ 719 5  
अवलबनहीन 649 10  
साधनहीन 558 20  
**बेसाझता**  
अप्रयत्नतः 490.15  
**बेसाजो सामान**  
उपकरणहीन 558 22  
सामानहीन 666 12  
**बेसिंगा [बेसिंगी]**  
सींगहीन 140 26  
**बेसिंधा [बेसिंधी]**  
सींगहीन 140.26  
**बेसिरपैर**  
असंगत 439 5  
बकयासपूर्ण 428 25

1344

संदर्भहीन 439 7  
**बेसिरपैर की बात**  
बकयास 428 7  
**बेसिलसिला**  
अव्यवस्थित 894 9  
क्रमहीन 992 5  
**बेसिलसिले**  
अक्रमत (चयित) 1009 23  
**बेसुध**  
आत्मलीन 331 15  
घेतनाहीन 264 20  
घेतनाहृत 264.21  
तल्लीन 331 14  
मदोन्मत 211 15  
**बेसुध होना**  
घेतना खोना 264 14  
मदोन्मत होना 211 10  
**बेसुधी**  
आत्मलीनता 331 7  
घेतनाहीनता 264 2  
तल्लीनता 331 6  
**बेसुर**  
बेसुरा [बेसुरी] 459.39  
**बेसुरा [बेसुरी]**  
बेसुरा [बेसुरी] 459.39 ⇨  
**बेसुरापन**  
बेसुरापन 459.35 ⇨  
**बेसुद**  
अनुपयोगी 525 8  
लाभहीन 649 12  
**बेसोथे**  
असावधानत 498 8  
विचारहीनत 330 30  
**बेसोथे समझे**  
असावधानत 498 8  
विचारहीनत 330 30  
**बेस्याद**  
अरोचक 401 10  
स्वादहीन 275 16  
**बेहंगम**  
कलाहीन 403 4  
कुडील 155 5  
विकराल 154 23  
**बेहङ्क**  
बीहङ्क भूमि 987 5  
**बेहतर**  
उत्तमतर 313 12  
उन्नत 534.10  
स्वीकृति उक्ति सूची 337.28  
**बेहतरता**  
उत्तमतरता 313 2  
**बेहतरी**  
उत्तमत 313 1  
उन्नति 534.1  
कल्याण 710.2  
**बेहतरीन**  
उत्तम 313.13

**बेहथियार**  
शस्त्रहीन 930.7  
**बेहद**  
असंख्य 944.8  
असीम 1001 34  
**बेहदी**  
अत्यधिकता 944.2  
**बेहन**  
अनाज. पीद 113 6  
**बेहना**  
धुनाई कर्मी 567.8  
**बेहनिन**  
घरखी 126.35  
**बेहया**  
अरलील 734.19  
घृष्ट 734 20  
नग्न 590 16  
लज्जाहीन 846 8  
**बेहयाई**  
अंग प्रदर्शन 590 7  
अरलीलता 734 7  
लज्जाहीनता 846 1  
**बेहला**  
वायलिन 461 76  
**बेहयास**  
उद्दिग्न 377 13  
पगल 354.24  
**बेहयासी**  
उद्दिग्नता 377 4  
**बेहाथ**  
अगाध्य 984 10  
**बेहाल**  
उत्पीकित 391 28  
उद्दिग्न 377 13  
दुर्दशाग्रस्त 627 22  
शोकग्रस्त 383 8  
संकटग्रस्त 909 19  
**बेहिचक**  
सकोचहीनत 846 9  
**बेहिचक देना**  
निस्संकोच देना 638 9  
**बेहिजाब**  
अरलील 734.19  
**बेहिजाबी**  
लज्जाहीनता 846 1  
**बेहिम्मती**  
कापुरुषता 395 12  
**बेहिसाब**  
अत्यधिकतः 944 12  
अमाप्य 958 60  
असंख्य 944.8  
असंख्यतरी 944 13  
**बेहिसाबी**  
असंख्यता 944 3  
**बेहुनर**  
अप्रवीण 304 9  
फुहङ्क 403.5

**बेहुदगी**  
अरलीलता 734.7  
असंभ्यता 734.1  
घृष्टता 734.8  
**बेहुदा [बेहुदी]**  
अरलील 734 19  
असंगत 439 5  
असंभ्य 734.14  
**बेहुदापन**  
असंभ्यता 734 1  
**बेहिसियत**  
अभावग्रस्त 627 17  
**बेहोरा**  
घेतनाहीन 264 20  
घेतनाहृत 264 21  
डगमगाता [डगमगाती] 1084 46  
मदोन्मत 211 15  
पृच्छित 264.23  
**बेहोरी**  
घेतनाहीनता 264 2  
मद 211 1  
पृच्छा 264 5  
**बैंक**  
बैंक 631.1 ⇨  
**बैंक (अँ)**  
बैंक 631 1  
**बैंक अकाउंट (अँ)**  
बैंक खाता 631 3  
**बैंक कर्मी**  
बैंक कर्मी 631.2 ⇨  
**बैंक खाता**  
बैंक खाता 631.3 ⇨  
**बैंक ड्राफ्ट**  
बैंक ड्राफ्ट 631.11 ⇨  
**बैंक ड्राफ्ट (अँ)**  
बैंक ड्राफ्ट 631 11  
**बैंक पे आर्डर**  
बैंक पे आर्डर 631.12 ⇨  
**बैंक पे आर्डर (अँ)**  
बैंक पे आर्डर 631 12  
**बैंकर (अँ)**  
बैंक कर्मी 631 2  
साहूकार 633 4  
**बैंक लीकर**  
बैंक लीकर 630 7 ⇨  
**बैंक लीकर (अँ)**  
बैंक लीकर 630 7  
**बैंक बर्कर (अँ)**  
बैंक कर्मी 631 2  
**बैंकिंग (अँ)**  
साहूकारा 633.3  
**बैंगन**  
बैंगन 189.29 ⇨  
साग सब्जी सूची 189 4  
**बैंगनी**  
बैंगनी 289.56 ⇨  
**बैंघ**  
बैंघ 595.28 ⇨



**बैच (अँ)**  
न्यायाधीश आसन 874.13  
न्यायालय 874.5

**बैच (अँ)**  
बैच 595 28  
यान सीट 1076.16

**बैजो**  
बैजो 461.68 ⇨

**बैजो (अँ)**  
बैजो 461 68

**बैड**  
मंगल वाद्य सूची 796.12

**बैड (अँ)**  
दल 691 1  
पट्टा 571 25  
बैड बाजा 461 8  
मंडली 691 5

**बैड बाजा**  
बैड बाजा 461 8 ⇨

**बैड मास्टर**  
बैड मास्टर 460.5 ⇨

**बैड मास्टर (अँ)**  
बैड मास्टर 460 5

**बैडेज (अँ)**  
वण पट्टी 174 16

**बै**  
ताना कधी 562 17  
विक्रय 661.1  
स्वत्व अंतरण 622 16

**बैकप्राउंड**  
बैकप्राउंड 404.22 ⇨

**बैकप्राउंड (अँ)**  
बैकप्राउंड 404.22

**बैकनेल्या (अँ) (प्राचीन रोम)**  
मघपान उत्सव 209 22

**बैक पाकिट (अँ)**  
हिप पाकिट 672.4

**बैकफायर (अँ)**  
प्रतिविस्फोट 1051 6

**बैकवाटर्च (अँ)**  
तटवर्ती प्रवाहहीन जल 21.13

**बैकस्ट्रोक**  
बैकस्ट्रोक 483.4 ⇨

**बैकस्ट्रोक (अँ)**  
बैकस्ट्रोक 483.4

**बैकुंठ**  
स्वर्ग 259.1

**बैकू**  
नल: टॉटी 19.28  
बपतन: टॉटी 680.24

**बैकूयुक्त घका**  
गंगा सागर 879.25

**बैकूयुक्त लुटिया**  
तुताई 684.5

**बैकू: लोटा**  
बैकू: लोटा 684.19 ⇨

**बैकटीरिया (बहु) (अँ)**  
जीवाणु 122.4

**बैग (अँ)**  
झोला 673 16  
थैला 673 1  
बटुआ. 672 9  
सूटकेस 676.19

**बैगन**  
बैगन 189.29

**बैगपाइप**  
बैगपाइप 461 69 ⇨

**बैगपाइप (अँ)**  
बैगपाइप 461.89

**बैगेज (अँ)**  
असबाब 1087 31

**बैघ (अँ)**  
खेप 686.3  
घान 686 4  
दल 691 1

**बैज (अँ)**  
पदक 857.7

**बैजनाथ**  
शिव 767 1

**बैजयंती**  
वैजयंती माला 228 32

**बैज्यायी**  
अडाकार 976 19

**बैजा**  
अडकोरा 152 11

**बैजा**  
अडा 242.1

**बैट (अँ)**  
बत्ला 479 30

**बैटरी**  
बैटरी 102.18 ⇨  
बैटरी 932.29 ⇨

**बैटरी (अँ)**  
टार्च 285 8  
बैटरी 932.29  
बैटरी 102.18

**बैटरी: सैल**  
बैटरी: सैल 102.19 ⇨

**बैटलशिप**  
बैटलशिप 1072 49 ⇨

**बैटलशिप (अँ)**  
बैटलशिप 1072.49

**बैठ**  
आसन ग्रहण 1028.1  
निथरन 1031.14

**बैठक**  
अधिवेशन 694 14  
गोष्ठी 694.4  
झाईंग रूम 614.16  
नमाजे जनाजा 253.13  
प्यू 745.25  
बटहरी 800.27  
बैठक 485.11 ⇨

**बैठना: मुद्रा**  
बैठना: मुद्रा 1028.4  
मूर्ति: आधार 406.2  
संगीत नृत्य सभा 468.4

सभा 694 1

**बैठक घर**  
झाईंग रूम 614 16  
सभागार 695 1

**बैठक विवरण**  
कार्य विवरण 449 9

**बैठक सूची**  
बैठक सूची 485 12 ⇨

**बैठका**  
झाईंग रूम 614 16  
बटहरी 800 27  
यान बैठका 1076 15  
सभागार 695 1

**बैठकी**  
आसन 595 2  
बटहरी 800 27  
बैठक 485 11

**बैठन**  
आधार ग्रहण 1019 6  
आसन 595 2  
आसन ग्रहण 1028 1  
डूबन 169 4  
दबक 989 3  
घेंसन 1031 8  
बैठना मुद्रा 1028 4

**बैठन शैली**  
बैठना मुद्रा 1028 4

**बैठना**  
आरोहित होना 1082 25  
डूबना 1031.20  
दहना 539 11  
दबकना 989.7  
घेंसना 1031 19  
धरा जाना 1019 9  
= गोदर होना 989 6  
नीचे उतरना 1031.17  
प्रशमित होना 372 6  
बैठना 1028.8 ⇨  
लक्ष्य पर जाना 931.18  
लागत आना 644 17  
विश्राम करना 494 19  
वेरयागमन करना 807 14  
सटना 31 6  
सही आकार होना 961 15

**बैठना: मुद्रा**  
बैठना: मुद्रा 1028.4 ⇨

**बैठना: मुद्रा सूची**  
बैठना: मुद्रा सूची 1028.5 ⇨

**बैठनि**  
बैठना मुद्रा 1028.4

**बैठा [बैठी]**  
आधारित 1019.17  
आसीन 1028 10  
दबका [दबकी] 989.11  
निधरा [निधरी] 1031.33  
प्रशमित 372.10

**बैठाई**  
आधारण 1019.5

फिटिंग 1016 2

**बैठान**  
सामजस्थ स्थापना 702.2

**बैठाना**  
कलम लगाना 548.37  
घरना 1019 10  
नियुक्त करना 653 24  
विजडित करना 1016.36  
सकुचित करना 980 16

**बैठापन**  
आसीनता 1028 3  
स्वर भग 299.13

**बैठालना**  
नियुक्त करना 653.24

**बैठा स्वर**  
स्वर भग 299.13

**बैठी रोटी**  
अश्रम आय 643 3

**बैठे ठाले**  
अप्रयत्नत 490.15

**बैठे उंड**  
उड सूची 485 10

**बैठे से उठना**  
उठ खड़ा होना 1029.8

**बैठे से खड़ा होना: कर्म**  
उठ खड़न 1029 2

**बैठ कवर (अँ)**  
पलग चादर 593 33

**बैडमिंटन**  
बैडमिंटन 477.12 ⇨

**बैडमिंटन (अँ)**  
बैडमिंटन 477 12

**बैडमिंटन गेंद**  
बैडमिंटन गेंद 479 12 ⇨

**बैडलम (अँ)**  
शयन कक्ष 614 21

**बैडशीट (अँ)**  
विस्तर चादर 593.34

**बैत**  
शेअर 452 27

**बैताल**  
भूत 786 1  
वैताल 786 11

**बैतालिक**  
जादूगर 474 11  
प्रेत साधक 759 13

**बैद**  
वैद्य 172.8

**बैदल**  
बॉस बैत: टोकरा 677.4

**बैदा**  
अडा 242 1

**बैन**  
उक्ति 434.1  
कथन 430 1  
प्रिय वचन 431 2

**बैन (अँ)**  
निषेध 880 1

## बैन करना

विनिषेध 880.5  
**बैन करना**  
 निषिद्ध करना 880.6  
**बैन लगाना**  
 विनिषिद्ध करना 880.9  
**बैना**  
 उक्ति 434.1  
 प्रिय वचन 431.2  
 बायन 183.26  
**बैनामा**  
 बयाना 658.9  
 बिक्री दस्तावेज़ 412.20  
 स्वत्व अंतरण पत्र 622.17  
**बैनिफिट (अँ)**  
 प्रसुविधा 643.28  
**बैन्ड (अँ)**  
 विनिषिद्ध 880.14  
**बैपटिस्ट्री**  
 बैपटिस्ट्री 745.26 ⇨  
**बैपटिस्ट्री (अँ)**  
 बैपटिस्ट्री 745.26  
**बैरंग लौटना**  
 असफल लौटना 513.3  
**बैर**  
 घृणा 370.2  
 शत्रुता 706.1  
**बैरक**  
 बैरक 602.20 ⇨  
**बैरक (अँ)**  
 बैरक 602.20  
**बैर काड़ना**  
 प्रतिशोध लेना 873.8  
**बैर छानना**  
 शत्रुता करना 706.12  
**बैरन**  
 सौत 803.9  
**बैर मोल लेना**  
 शत्रुता करना 706.12  
**बैरल**  
 बैरल 959.55 ⇨  
**बैरल (अँ)**  
 पीपा 678.13  
 बैरल 959.55  
**बैरलाकार**  
 सिलंडराकार 976.23  
**बैरा**  
 घपरासी 652.39  
 परोस कर्मी 183.20  
**बैरा (अँ)**  
 परोस कर्मी सूची 183.21  
**बैराग**  
 विरक्ति 366.2  
 संन्यास आश्रम 233.6  
**बैरागिन**  
 साधु स्त्री 790.17  
**बैरागी**  
 बैरागी 790.5 ⇨  
 विरक्त 366.6

साधु 790.16  
**बैरी**  
 विरोधी 886.7  
**बैरी [बैरिन]**  
 शत्रु 706.2  
**बैरो (अँ)**  
 इकपहिया ठेला 1071.8  
**बैल**  
 बैल 127.13 ⇨  
**बैल (अँ)**  
 घंटी 461.30  
**बैलगाड़ी**  
 बैलगाड़ी 1071.42 ⇨  
**बैलगाड़ी छत**  
 बैलगाड़ी छत 611.16 ⇨  
**बैलक (अँ)**  
 मतदान पत्र 888.20  
**बैलक पेपर (अँ)**  
 मतदान पत्र 888.20  
**बैल ठेला**  
 बैल ठेला 1071.44 ⇨  
**बैल घेतल (अँ)**  
 घंट घातु 94.4  
**बैलास्ट**  
 बैलास्ट 1061.10 ⇨  
**बैलास्ट (अँ) (नीकायन)**  
 बैलास्ट 1061.10  
**बैलून (अँ)**  
 गुब्बारा 480.8  
 गुब्बारा यान 1074.5  
**बैलूनर (अँ)**  
 बैलूनर 1081.39  
**बैलूनरिस्ट**  
 बैलूनरिस्ट 1081.39 ⇨  
**बैलूनरिस्ट (अँ)**  
 बैलूनरिस्ट 1081.39  
**बैलेंस (अँ)**  
 घटान फल 954.9  
**बैलेंस व्हील (अँ)**  
 संतुलन चक्र 1077.42  
**बैलेंस शीट**  
 बैलेंस शीट 632.2 ⇨  
**बैलेंस शीट (अँ)**  
 बैलेंस शीट 632.2  
**बैले**  
 बैले 463.11 ⇨  
**बैले (अँ)**  
 नृत्य नाटक 463.9  
 बैले 463.11  
**बैलेरिना (अँ)**  
 नर्तकी 462.14  
**बैलेट (अँ)**  
 कमर पेटी 571.5  
 चल पट्टा 1076.26  
**बैशनों देवी**  
 वैष्णव देवी 774.88  
**बैसर**  
 ताना कंधी 562.17

**बैसाख**  
 वैशाख 43.8  
**बैसाखी**  
 आधार सूची 596.2  
 बैसाखी 57.41 ⇨  
 बैसाखी 596.14 ⇨  
**बॉक**  
 घुल दंड 609.16  
**बॉका**  
 फलांकुर 113.4  
 बारूद पलीता 927.21  
**बॉडी**  
 कली 115.5  
**बॉडी**  
 फलांकुर 113.4  
 कली 116.3  
**बो (अँ)**  
 अगला डेक 1073.28  
 कमानचा 461.93  
 बो टाई 585.3  
**बोअनी**  
 पहली बिक्री 661.3  
**बोइया**  
 बोइया 677.15 ⇨  
**बोई**  
 बोइया 677.15  
**बोकरा**  
 नर बकरी 127.23  
**बोक्काण**  
 तोबका 673.7  
**बोगी (अँ)**  
 पशु ठेला 1071.9  
 बग्घी 1071.39  
**बोझ**  
 भार 963.1  
 भारीपन 963.4  
 लाद 1061.5  
 सामान 1061.6  
**बोझः चबूतरा**  
 टेक चबूतरा 596.7  
**बोझ मारा [बोझ मारी]**  
 अतिभारग्रस्त 963.15  
**बोझल**  
 अतिभारग्रस्त 963.15  
**बोझा**  
 गठरी 674.2  
 जेब 672.1  
 भार 963.1  
 लाद 1061.5  
**बोझा उजाना**  
 भार वहन करना 1061.16  
**बोझा गाड़ी**  
 भार यान 1071.2  
**बोझा लावना**  
 लादना 1061.17  
**बोझिल**  
 अतिभारग्रस्त 963.15

**बोझीला [बोझीली]**  
 अतिभारग्रस्त 963.15  
 भारी 963.13  
**बोझीलापन**  
 भारीपन 963.4  
**बोट (अँ)**  
 जलयान 1072.1  
 नौका 1072.2  
 मरतबान 676.11  
**बोट बैली (अँ)**  
 नौकोदर 1073.34  
**बोट हाउस**  
 बोट हाउस 1069.29 ⇨  
**बोट हाउस (अँ)**  
 बोट हाउस 1069.29  
**बोटा**  
 कुदा 597.3  
 खंड 938.1  
**बो टाई**  
 बो टाई 585.3 ⇨  
**बो टाई (अँ)**  
 बो टाई 585.3  
**बोटिंग (अँ)**  
 नौका विहार 483.21  
**बोटी**  
 अस्थि 133.1  
 खंड 938.1  
 मांस पिंड 132.2  
 मांसयुक्त हड्डी (बोटी) 206.27  
**बोका**  
 अजगर 123.17  
 लोबिया 189.33  
**बोतल**  
 ऐरेटिड वाटर 208.8  
 कॉफ़ बोतल 678.4  
 दूधः बोतल 684.6  
 बोतल 678.1 ⇨  
 मद्य 209.1  
**बोतल का जिन्न**  
 बोतल का जिन्न 786.5 ⇨  
**बोतलबंद**  
 बोतलबंद 1014.12 ⇨  
**बोतल बुछरा**  
 बोतल बुछरा 678.5 ⇨  
**बोतली**  
 बोतल 678.1  
**बोतलीकृत**  
 बोतलबंद 1014.12  
**बोता [बोती]**  
 ऊँटः शिशु 230.12  
**बोबा [बोबी]**  
 अत्याचार सहन कर्ता 835.14  
 अदृक 159.16  
 आलसी 490.14  
 दम्य 518.23  
 भंजनशील 539.14  
**बोध**  
 अनुभूति 263.1

चेतना 263.4  
 ज्ञान 305.1  
 बोध 301.9 ⇨  
 बोध प्राप्ति 301.11  
**बोधक**  
 अर्थ द्योतक 427.23  
 बोध प्रदाता 301.30  
 सञ्ज्ञापक 441 20  
**बोध करना**  
 बोध करना 301.18 ⇨  
**बोध क्षमता**  
 बुद्धि 301 1  
 बोध क्षमता 301.12 ⇨  
**बोधगम्य**  
 ज्ञेय 305 38  
**बोधगम्यता**  
 ज्ञेयता 305.20  
**बोधन**  
 उद्बोधन 499 3  
 बोध प्रदान 301 10  
 भावोद्दीपन 358.8  
**बोधपूर्ण**  
 ज्ञानपूर्ण 305.28  
 बोधप्रद 301 31  
**बोधप्रद**  
 बोधप्रद 301 31 ⇨  
**बोध प्रदाता**  
 बोध प्रदाता 301.30 ⇨  
**बोध प्रदान**  
 बोध प्रदान 301 10 ⇨  
**बोध प्राप्त**  
 बोध प्राप्त 301.29 ⇨  
**बोध प्राप्त होना**  
 बोध होना 301 17  
**बोध प्राप्ति**  
 बोध प्राप्ति 301.11 ⇨  
**बोधयिता**  
 बोध प्रदाता 301 30  
**बोधहीनता**  
 चेतनाहीनता 264 2  
**बोध होना**  
 बोध होना 301.17 ⇨  
**बोधार्थी**  
 अज्ञेय 306.13  
**बोधान**  
 बुद्धिमान व्यक्ति 301 6  
**बोधि**  
 पीपल 13.14  
**बोधित**  
 उद्बोधित 499.10  
**बोधि द्रुम**  
 महाबोधि वट 13.18  
**बोधि वृक्ष**  
 वरगद 13.18  
**बोधिवृक्ष देवी**  
 श्री बुद्धि 774.93  
**बोधिसत्त्व**  
 बोधिसत्त्व 793.15 ⇨

**बोधिसत्त्व**  
 बुद्ध पूर्व जन्म 793.2  
**बोधिसत्त्व सूची**  
 बोधिसत्त्व सूची 793.16 ⇨  
**बोधी**  
 ज्ञानी 305.30  
 बोध प्राप्त 301 29  
**बोधोदय**  
 बोध प्राप्ति 301 11  
**बोध्य**  
 ज्ञेय 305.38  
 दृश्य 334 16  
 बोध्य 518.17 ⇨  
**बोध्यता**  
 बोध्यता 518.5 ⇨  
**बोन चाइना**  
 बोन चाइना 680.10 ⇨  
**बोन चाइना (ऑ)**  
 बोन चाइना 680 10  
**बोनस**  
 बोनस 643 31 ⇨  
**बोनस (ऑ)**  
 बोनस 643.31  
**बोना**  
 बुआई करना 548 35  
**बोनी**  
 पहली बिक्री 661 3  
**बोने वाला**  
 बोने वाला 548.51 ⇨  
**बोम**  
 कोलाहल 294 8  
**बोया [बोई]**  
 बोया [बोई] 548.50 ⇨  
**बोर**  
 अरोचक 401 10  
 डोब 1031 12  
**बोर (ऑ)**  
 अतव्यास 972 13  
 छिद्र माप 271 14  
**बोरका**  
 दवात 416.26  
**बोरना**  
 आरंजित करना 291.7  
**बोरसी**  
 अंगीठी 109.5  
**बोर होना**  
 ऊबना 401 8  
**बोरा**  
 बोरा 673.18 ⇨  
 बोरी 959.56  
**बोरिंग (ऑ)**  
 उबाऊ 401.15  
 छिद्र खनन 1018.4  
**बोरियत**  
 ऊब 401.3  
**बोरिया**  
 बोरी 673.20

**बोरिया बधना**  
 बोरिया बिस्तर 593.61  
**बोरिया बिस्तर**  
 असबाब 1087.31  
 बोरिया बिस्तर 593.61 ⇨  
 होल्डाल 1087.32  
**बोरी**  
 बोरी 673.20 ⇨  
 बोरी 959.56 ⇨  
**बोर्ड (ऑ)**  
 खेल पटल 479 36  
 गत्ता 415 12  
 यिमाग 937.3  
 समिति 692.20  
 स्कोर बोर्ड 950 18  
 होर्डिंग 442 14  
**बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्स (ऑ)**  
 संचालन समिति 692.25  
**बोर्डवाक (ऑ)**  
 कैटवाक 1065 4  
**बोर्डिंग हाउस (ऑ)**  
 होस्टल 1090.37  
**बोस**  
 उक्ति 434.1  
 कटु वचन 432.3  
 गीत बोल 451 20  
 थाप 458 51  
 ध्वनि 294 1  
 भाषण 430 8  
 वचन 339 15  
 याचा 299.1  
 दोल 274.28  
**बोसचाल**  
 परिधितता 704.1  
 चलित बोली 421 3  
 महावरा 424 15  
**बोलचाल: नाम**  
 घर का नाम 315 5  
**बोलचाल बंद**  
 मित्रता विस्थापना 705 16  
**बोलता [बोलती]**  
 अभिव्यक्तिपूर्ण 428 16  
 मुखर 428 11  
**बोलतान**  
 बोलतान 458.17 ⇨  
**बोलती**  
 याचा 299.1  
**बोलती छाया**  
 सवाक फ़िल्म 472.3  
**बोलती बंद करना**  
 गीन करना 429.15  
**बोलती बंद होना**  
 निरुत्तर होना 335.7  
 याचाहीन होना 429.16  
**बोलना**  
 अभिव्यक्ति करना 428.9  
 कहना 430 11  
 टूटना फूटना 539.10

ध्वनि करना 294 15  
 भाषण देना 430.13  
 राग गायन करना 460.44  
 वचन देना 339.27  
 वार्तालाप करना 435.16  
**बोलना कर्म**  
 कथन 430.1  
**बोलने न देना**  
 याचा रोधन करना 429 18  
**बोलने वाला**  
 कथन कर्ता 430 18  
**बोलने वाला पक्षी**  
 याचाल पक्षी 126.10  
**बोलपट**  
 सवाक फ़िल्म 472 3  
**बोल वाला**  
 उन्नति काल 534.2  
 प्रतिष्ठा वृद्धि 849 3  
**बोल वाला होना**  
 प्रतिष्ठा बढ़ना 849 11  
**बोला [बोली]**  
 वचन दत्त 339 40  
**बोलाई (ऑ)**  
 मकरी 1073 36  
**बोली**  
 आवाहन 1055 1  
 कटाक्ष 844 3  
 कटु वचन 432 3  
 ध्वनि 294.1  
 नीलाम 659.8  
 नीलाम बोली 659 11  
 बोली 421.2 ⇨  
 भाषा 421.1  
 वचन 339 15  
 स्वर भंगिमा 299.4  
**बोली (दे.)**  
 याचा 299 1  
**बोली चुभना**  
 कटाक्ष लगना 844.8  
**बोली ठोली**  
 कटाक्ष 844 3  
**बोली मारना**  
 कटाक्ष करना 844 7  
**बोल्ड (ऑ)**  
 काबला 1016 24  
 मूसला 609 22  
**बोल्ड**  
 बोल्ड 413 15 ⇨  
**बोल्ड (ऑ)**  
 बोल्ड 413 15  
**बोल्डि (ऑ)**  
 मस्तूल: शहतीर 1073.15  
**बोह**  
 डुबकी 1031.10  
**बोहथ**  
 नीका 1072 2  
**बोहनी**  
 पहली बिक्री 661 3

## बोहित्य

### बोहित्य

जलयान 1072.1  
नीका 1072 2

### बौद्ध

लता 111.17

### बौद्ध (अं)

आबद्ध पत्र 339 5  
ऋण पत्र सूची 633 15  
बघपत्र 628 20

### बौद्धी

दमकी 629 15

### बौद्धिग पाईट (अं)

कथनाक 103 12

### बौद्धस (अं)

दर्शक बौद्धस 471 6

### बौद्धस्तर

बौद्धस्तर 486 6 ⇨

### बौद्धस्तर (अं)

बौद्धस्तर 486 6

### बौद्धिसग

बौद्धिसग 486.5 ⇨

### बौद्धिसग (अं)

बौद्धिसग 486 5

### बौद्धलाना

अति क्रुद्ध होना 373 16

उद्दिग्ग होना 377 7

उन्मत्त होना 354 20

झल्लाना 373 24

हडबडाना 496 8

### बौद्धलाया [बौद्धलाई]

उद्दिग्ग 377 13

उन्मत्त 354 22

### बौद्धलाहट

अति क्रोध 373.2

उद्दिग्गता 377 4

झल्लाहट 373.10

हडबडी 496 5

### बौद्धा

तेज्र झोका 85 13

### बौद्धार

अत्यधिकता 944 2

तीव्र लहर 1040 21

तीव्र वर्षा 54 11

प्रघार 1032 8

वर्षा 54 5

### बौद्धारी सिंघन

फुहार सिंघन 548 15

### बौटल (अं)

बोतल 678 1

### बौटल ओपनर (अं)

कोर्क ओपनर 675 12

### बौटल्ल (अं)

बोतलबंद 1014 12

### बौद्धम

पागल व्यक्ति 354 15

मंदपी 302.8

मूर्ख व्यक्ति 302 2

### बौद्धिस

बौद्धिस 585.44 ⇨

### बौद्धिस (अं)

बौद्धिस 585 44

### बौद्धी (अं)

उरोभाग 585 71

निकाय 692 7

यान शरीर 1076 1

संस्था 692 1

समिति 692.20

### बौद्धीगार्ड (अं)

अंगरक्षक 908.21

### बौद्धी जैरघर (अं)

शारीर अभिनय 464 20

### बौद्धी सचं (अं)

खाना तलाशी 336 14

### बौद्ध

बुद्ध विषयक 793 17

बौद्ध धर्मावलंबी 737 7

### बौद्ध धर्म

त्रिरत्न सूची 737 10

बौद्ध धर्म 737.6 ⇨

### बौद्ध धर्म: इतिहास

महायशा 740 6

### बौद्ध धर्मग्रंथ

बौद्ध धर्मग्रंथ 740 1 ⇨

### बौद्ध धर्मावलंबी

बौद्ध धर्मावलंबी 737 7 ⇨

### बौद्ध भिक्षु

बौद्ध भिक्षु 790 27 ⇨

### बौद्ध भिक्षुणी

बौद्ध भिक्षुणी 790.28 ⇨

### बौद्ध मंदिर

बौद्ध मंदिर 745.39 ⇨

### बौद्ध मठ

बौद्ध मठ 745 12 ⇨

### बौद्ध मठाधीश

बौद्ध मठाधीश 744 39 ⇨

### बौद्ध संप्रदाय सूची

बौद्ध संप्रदाय सूची 737.15 ⇨

### बौद्ध साधारण जन

बौद्ध साधारण जन 743.4 ⇨

### बौद्ध साधु

बौद्ध साधु 790.27

### बौद्ध सूत्र

सुत्र पिटक 740 5

### बौद्धिक

बुद्धिजीवी 301.22

बुद्धीय 301 20

### बौधायन

ऋषि मुनि सूची 789.17

### बोना [बोनी]

अल्पोच्य 982 9

ठिंगना 154 18

ठिंगना व्यक्ति 154.8

### बोनापन

अधमता 840.1

अल्पोच्यता 982.2

ठिंगना क्रुद्ध 154.5

### बोयकाट (अं)

बहिष्कार 870 13

### बोयकाट करना

बहिष्कार करना 870.20

### बोयकाटेड (अं)

बहिष्कृत 870.31

### बोर

बीज समूह 112 9

मंजरी 115 10

### बोर आना

पुष्पित होना 118 8

### बोरई

वसंतोन्माद 354.10

### बोरहा [बोरही]

पागल 354 24

### बोरा [बोरी]

पागल 354.24

### बोरार्ई

पागलपन 354 14

धसतोन्माद 354 10

### बोराना

पागल होना 354 21

### बोरारया [बोरार्ई]

उन्मत्त 354 22

पागल 354 24

### बोरारयापन

पागलपन 354 14

वसंतोन्माद 354 10

### बोर्डर (अं)

सीमा 1001 1

सीमा रेखा 1001 17

### बोर्ल (अं)

डोगा 679.47

### बोस (अं)

अध्यक्ष 652 14

### ब्यथा

मनोव्यथा 391 7

शोक 383.1

### ब्याज

व्याज 633.10

### ब्याज बट्टा

लाभ हानि 646.1

### ब्याजी

व्याजयुक्त 633.37

### ब्याजू

मूलधन 633.9

व्याजयुक्त 633.37

### ब्याना

पशु फूसी द्वारा प्रसव करना 244 12

### ब्याल

सर्प 123 10

### ब्यालू

साध्य आहार 199.4

### ब्याह

विवाह 799.1

विवाह उत्सव 799.2

### ब्याह टेल्ला

विवाह उत्सव 799.2

### ब्याहला

विवाहित स्त्री 236.7

विवाहिता 799 65

### ब्याहन

विवाहन 799.6

### ब्याहना

पुत्री का विवाह करना 799 47

विवाह करना 799 45

### ब्याहली

नव वधु 801 12

विवाहिता 799.65

### ब्याहा

विवाहित 799 64

### ब्याही

विवाहिता 799 65

### ब्यूटी पार्लर (अं)

शूगर घर 222 8

### ब्यूटीशियन (अं)

शूगर कर्मी 222 10

### ब्यूरोक्रिट (अं)

राज्य सेवा कर्मी 890 12

### ब्यॉथ

मोघ 392 12

### ब्यॉत

उपाय 517 3

कार्य विधि 514 1

परिकल्पना 520 5

मित व्यय 644 2

### ब्योपार

व्यापार 657 1

### ब्योपारी

व्यापारी 657 2

### ब्योर

कुराल क्षेम 710 6

परिभाषा 317 1

वर्णन साहित्य 449 3

विवरण 449 8

### ब्योर देना

सविस्तार विवरण करना 449.21

### ब्योर बही

कार्य पंजी 632 12

### ब्योरैदार

सविस्तार विवृत 449 29

### ब्योरैदार

असंक्षिप्ततः 978.8

विवरणपूर्वक 449.32

### ब्योरे से

विवरणपूर्वक 449.32

### ब्योहार

आदान प्रदान संबंध 636.2

व्यवहार 703.2

संगति 696 1

### ब्रंच (अं)

आहार काल सूची 199.2

### ब्रज

गोशाला 603.24

- पर्यटन 1090.6  
मार्ग 1083.1  
यात्रा 1087.1  
विश्राम स्थल 1090.19  
सङ्क 1063.33
- ब्रज किशोर**  
कृष्ण 771.1
- ब्रजन**  
गमन 1091.1  
पर्यटन 1090.6  
विधरण 1085.1
- ब्रजनाथ**  
कृष्ण 771.1
- ब्रज विहारी**  
कृष्ण 771.1
- ब्रजभाषा**  
ब्रजभाषा 421.13 ⇨
- ब्रज मोहन**  
कृष्ण 771.1
- ब्रज युवती**  
गोपी 771.32
- ब्रजराज**  
कृष्ण 771.1
- ब्रज रामा**  
गोपी 771.32
- ब्रज वधू**  
गोपी 771.32
- ब्रजयात्री**  
कृष्ण 771.1
- ब्रज सुवरी**  
गोपी 771.32
- ब्रजेंद्र**  
कृष्ण 771.1
- ब्रजेश**  
कृष्ण 771.1
- ब्रजेश्वर**  
कृष्ण 771.1
- ब्रजा (औं)**  
सूलिका 404.33
- ब्रह्म**  
एक. उपमान सूची 948.18  
ब्रह्म 764.24 ⇨  
ब्रह्म विषयक 764.39  
ब्रह्मा 766.1  
ब्रह्मा विषयक 766.17  
मन 351.2  
सत्य 820.1
- ब्रह्म (ई.)**  
विष्णु 768.1  
हिरण्य गर्भ 764.32
- ब्रह्म ऋषि**  
ब्रह्मर्षि 789.8
- ब्रह्म और विश्व मित्र ई**  
द्वैतवाद 760.10
- ब्रह्मकला**  
दाक्षायणी 774.44  
सती 776.16
- ब्रह्मकल्प**  
महाकल्प 40.7
- ब्रह्मकोश**  
संपूर्ण वेद 740.24
- ब्रह्मगति**  
मोक्ष 257.1
- ब्रह्मगोल**  
खगोल 1.2  
ब्रह्मांड 1.1
- ब्रह्म घोष**  
वेद 740.22
- ब्रह्म चर्चा**  
उपनिषद् 740.12
- ब्रह्मचर्य**  
अविवाहितता 234.9  
पथशील सूची 737.12  
ब्रह्मचर्य 234.3 ⇨  
ब्रह्मचर्य आश्रम 234.1  
ब्रह्मचर्य आश्रम  
चार आश्रम सूची 233.3  
ब्रह्मचर्य आश्रम 234.1 ⇨  
ब्रह्मचर्य आश्रमी  
ब्रह्मचर्य आश्रमी 234.2 ⇨  
ब्रह्मचर्य पालक  
ब्रह्मचारी 234.4  
ब्रह्मचर्य पालिका  
ब्रह्मचारिणी 234.5  
ब्रह्मचर्य प्रवेश  
ब्रह्मचर्य प्रवेश 234.8 ⇨  
ब्रह्मचर्य व्रत  
आजीवन ब्रह्मचर्य 234.7  
ब्रह्मचर्य व्रती  
आजीवन ब्रह्मचारी 234.12
- ब्रह्मचर्यांत**  
विवाह 799.1
- ब्रह्मचर्या**  
ब्रह्मचर्य 234.3  
ब्रह्मचारिणी  
कुमारी 234.17  
दुर्गा 776.7  
ब्रह्मचारिणी 234.5 ⇨
- ब्रह्मचारी**  
अविवाहित 234.13  
कुमार 234.16  
धर्म दीक्षित 742.25  
ब्रह्मचारी 234.4 ⇨  
शिव 767.1
- ब्रह्मचारी भीष्म**  
भीष्म 771.77
- ब्रह्मज**  
हिरण्य गर्भ 764.32
- ब्रह्मजार**  
इंद्र 773.5
- ब्रह्मजीवी**  
मंदिर कर्मी ब्रह्मण्य 731.16
- ब्रह्मज्ञ**  
विष्णु 768.1
- ब्रह्मज्ञान**  
उपनिषद् 740.12  
शब्द ब्रह्म 764.30
- ब्रह्मज्ञानी**  
अध्यात्मज्ञ 761.25  
जनक 770.28
- ब्रह्मणी**  
ब्रह्मण स्त्री 731.14
- ब्रह्मण्य**  
ताड़ 13.8  
नारायण (नर) 764.19  
ब्रह्मतेज 764.25  
ब्रह्म विषयक 764.39  
विष्णु 768.1  
शनि ग्रह 7.8  
स्कंद 773.50
- ब्रह्मतेज**  
ब्रह्मतेज 764.25 ⇨  
ब्रह्मतेजयुक्त  
ब्रह्मतेजयुक्त 764.40 ⇨  
ब्रह्मतेजस्वी  
ब्रह्मतेजयुक्त 764.40
- ब्रह्मदंड**  
ब्रह्मण शाप 713.4
- ब्रह्मद्वय**  
गंगाजल 88.9
- ब्रह्मद्रुम**  
पलाश 13.13
- ब्रह्मद्वार**  
ब्रह्मरत्न 138.4
- ब्रह्मनदी**  
सरस्वती 20.24
- ब्रह्म निर्वाण**  
मोक्ष 257.1
- ब्रह्मपाश**  
दिव्य पाश सूची 928.5  
ब्रह्मपाश 928.7 ⇨
- ब्रह्म पिशाच**  
ब्रह्म पिशाच 786.10 ⇨
- ब्रह्मपुत्र**  
ब्रह्मा पुत्र 766.9
- ब्रह्मपुत्रा**  
आकाश गंगा 1.14  
ब्रह्मपुत्रा 20.17 ⇨  
भारत उपमहाद्वीप. नदी सूची 20.7
- ब्रह्मपुत्री**  
सरस्वती 20.24
- ब्रह्मपुर**  
हृदय 146.5
- ब्रह्म पुराण**  
पुराण सूची 740.17
- ब्रह्म पूजा**  
निराकार पूजा 751.6
- ब्रह्म प्राप्ति**  
मोक्ष 257.1
- ब्रह्म ऋषि**  
ब्रह्मपाश 928.7
- ब्रह्मभूत**  
ब्रह्मलीन 755.10
- ब्रह्मभोज**  
मृत्यु भोज 183.10
- ब्रह्म मुहूर्त**  
ब्रह्म मुहूर्त 47.6
- ब्रह्मयज्ञ**  
यज्ञ सूची 753.2
- ब्रह्मरंध्र**  
ब्रह्मरंध्र 138.4 ⇨
- ब्रह्म राक्षस**  
ब्रह्म पिशाच 786.10
- ब्रह्मरात्र**  
ब्रह्म मुहूर्त 47.6
- ब्रह्मराशि**  
परशुराम अवतार 769.28  
संपूर्ण वेद 740.24
- ब्रह्मर्षि**  
ब्रह्मर्षि 789.8 ⇨
- ब्रह्मलिखित**  
प्रारब्ध लिखित 260.31
- ब्रह्मलीन**  
ब्रह्मलीनता 755.10 ⇨  
मोक्षगत 257.7
- ब्रह्मलीन अवस्था**  
ब्रह्मलीन अवस्था 257.5 ⇨
- ब्रह्मलीनता**  
ब्रह्मलीनता 755.6 ⇨
- ब्रह्म लेख**  
प्रारब्ध लेख 260.6
- ब्रह्मलेखा**  
प्रारब्ध लिखित 260.31
- ब्रह्म लोक**  
मोक्ष लोक 258.10
- ब्रह्मवर्धस**  
ब्रह्मतेज 764.25
- ब्रह्मवर्धस्वी**  
ब्रह्मतेजयुक्त 764.40
- ब्रह्मवर्धस्वी**  
ब्रह्मतेजयुक्त 764.40
- ब्रह्मवर्धन**  
तौबा 94.8
- ब्रह्मवाद**  
एकेश्वरवाद 760.16
- ब्रह्मवादिनी**  
गायत्री 774.34  
दक्ष. पुत्री 787.3  
ब्रह्मवादिनी 787.5 ⇨
- ब्रह्मविद्या**  
अध्यात्म 761.1  
गीता 740.14
- ब्रह्म विषयक**  
ब्रह्म विषयक 764.39 ⇨
- ब्रह्मवेद**  
अथर्ववेद 740.29
- ब्रह्म वैवर्त**  
ब्रह्मांड 1.1

## ब्रह्म वैवर्त पुराण

### ब्रह्म वैवर्त पुराण

पुराण सूची 740.17

### ब्रह्मः शक्ति

ब्रह्म शक्ति 764.26 ⇨

### ब्रह्मशास्त्र

बबूल 13 15

### ब्रह्मशाप

ब्राह्मण शाप 713 4

### ब्रह्म शासन

वेद वाक्य 740.23

### ब्रह्मशिरः

दिव्यास्त्र सूची 928.2

### ब्रह्म संतान

ब्रह्मा संतान 766 7

### ब्रह्म समाज

ब्रह्म समाज 737.38 ⇨

### ब्रह्म सायुज्य

ब्रह्मलीनता 755.6

### ब्रह्म सावर्णि मनु

मनु सूची 788.4

### ब्रह्मसुता

सरस्वती 775 8

### ब्रह्मसू

अनिरुद्ध 771 34

कामदेव 773 12

### ब्रह्म सूत्र

प्रस्थान त्रयी सूची 740.11

ब्रह्म सूत्र 740.45 ⇨

ब्रह्म सूत्र 740.50 ⇨

यज्ञोपवीत 798 22

### ब्रह्म सूत्री

यज्ञोपवीत धारी 798.46

### ब्रह्मांड

कपाल 133 6

ब्रह्मांड 1.1 ⇨

### ब्रह्मांड (दे.)

हिरण्य गर्भ 764 32

### ब्रह्मांड पुराण

पुराण सूची 740.17

### ब्रह्मांड विज्ञान

ब्रह्मांड विज्ञान 1.3 ⇨

### ब्रह्मांडिकी

ब्रह्मांड विज्ञान 1 3

### ब्रह्मांडीय

ब्रह्मांडीय 1.15 ⇨

### ब्रह्मांध

गोमूत्र 216 16

### ब्रह्मा

अग्निहोत्री 753 11

कवि 448 13

दिव्यास्त्र सूची 928.2

पुरोहित 744 11

प्रथम पुरुषः मान्यता सूची 236.14

ब्रह्मा 766 1 ⇨

लोकपाल सूची 780 7

विष्णु षोडश अवतार सूची 789.9

### ब्रह्मा (दे.)

प्रारब्ध विधाता 260 7

हिंदू त्रिमूर्ति सूची 765.8

ब्रह्माः अर्ध भाग

स्वायंभुव मनु 788.6

ब्रह्मा अहोरात्रः अर्ध भाग

कल्प 40:6

ब्रह्मा आयु

महाकल्प 40 7

ब्रह्मा आयुः ह

अर्ध महाकल्प 40.8

ब्रह्माक्षर

ओम् 741.19

ब्रह्माख्या तनु

ब्रह्माः सृष्टिकालीन तनु सूची 766.2

ब्रह्माग्नि

योग अग्नि 756.15

ब्रह्माधरण

ब्रह्मधर्य 234.3

ब्रह्माः चरण सूची

ब्रह्मा चरण सूची 766.3 ⇨

ब्रह्माणी

दुर्गा 776.7

देवी. शक्ति सूची 774 50

नवकन्या सूची 774 20

ब्रह्माणी 774.58 ⇨

ब्रह्मा. पत्नी 766 5

ब्रह्माः शक्ति 766 4

रेणुका 274 25

सप्त मातृका सूची 774.70

सरस्वती 775.8

ब्रह्माः धनुष

ब्रह्मा धनुष 766 15 ⇨

ब्रह्मानंद

आत्मानंद 382.5

रसानुभूति 455.4

ब्रह्माः नगरी

ब्रह्मा नगरी 766.13 ⇨

ब्रह्मः पत्नी

ब्रह्मा पत्नी 766.5 ⇨

सरस्वती 775.8

सावित्री 774.97

ब्रह्माः पत्नी सूची

ब्रह्माः पत्नी सूची 766.6 ⇨

ब्रह्माः पुत्र

धर्म 773 32

ब्रह्मा पुत्र 766.9 ⇨

ब्रह्मापुत्र

ब्रह्मा पुत्र 766.9

ब्रह्माः पुत्र

भुव 773 39

ब्रह्माः पुत्र सूची

ब्रह्मा पुत्र सूची 766.10 ⇨

ब्रह्माः पुत्री

देवसेना 774 47

सरस्वती 775 8

ब्रह्माः पैर

राक्षसः उत्पत्ति 784.3

ब्रह्माः प्रथम संतान

ब्रह्माः प्रथम संतान 766.8 ⇨

ब्रह्मा मानसज

ब्रह्माः मानस पुत्र 766.11

ब्रह्माः मानस पुत्र

प्रजापति 787.1

ब्रह्माः मानस पुत्र 766.11 ⇨

मनु 788 1

ब्रह्माः मानस पुत्र सूची

ब्रह्माः मानस पुत्र सूची 766.12 ⇨

ब्रह्माः मानस पुत्री

गायत्री 774.34

ब्रह्मार्पण

कर्मफल त्याग 504 13

घडाया 750 12

ब्रह्मावर्त

उत्तर भारत 28.3

ब्रह्माः वाहन

ब्रह्माः वाहन 766.16 ⇨

ब्रह्मा विषयक

ब्रह्मा विषयक 766.17 ⇨

ब्रह्मा विष्णु महेश

घाता 773.35

सगुण ब्रह्म 764.29

ब्रह्माः शक्ति

ब्रह्माः शक्ति 766 4 ⇨

ब्रह्माः संतान

ब्रह्माः संतान 766.7 ⇨

ब्रह्मासन

योग आसन सूची 756 19

ब्रह्माः स्था

ब्रह्माः सभा 766.14 ⇨

ब्रह्मा सरस्वती

प्रथम स्त्री पुत्रः मान्यता सूची 236.2

ब्रह्माः सृष्टिकालीन तनु सूची

ब्रह्माः सृष्टिकालीन तनु सूची 766.2 ⇨

ब्रह्मी

विष्णु 768 1

ब्रह्मीय

ब्रह्मा विषयक 766.17

ब्रह्मेशाय

विष्णु 768.1

ब्रांच (अँ)

शाखा 937.7

शाखा कार्यालय 654.6

ब्रांच आक्रिस (अँ)

शाखा कार्यालय 654.6

ब्रांच लाइन

ब्रांच लाइन 1066.18 ⇨

ब्रांच लाइन (अँ)

ब्रांच लाइन 1066 18

ब्रांड (अँ)

व्यापार चिह्न 408.3

ब्रांडी

ब्रांडी 209.11 ⇨

ब्रांडी (अँ)

ब्रांडी 209.11

ब्रा

ब्रा 587.5 ⇨

ब्रा (अँ)

ब्रा 587 5

ब्राउन कोल (अँ)

लिग्नाइट 110.11

ब्राः काल्सी

ब्राः काल्सी 587.6 ⇨

ब्रास (अँ)

पीतल 94.10

ब्रासवेअर (अँ)

पीतल बरतन 680.16

ब्राह्म

ब्रह्म विषयक 764.39

ब्रह्म सूत्र 740.50

ब्रह्माडीय 1.15

ब्रह्मा विषयक 766.17

ब्राह्मणीय 731.35

वेदीय 740.62

ब्राह्मण

दिज्ञ सूची 731.8

पंडा 744 4

पुरोहित 744.11

ब्राह्मण 731.13 ⇨

ब्राह्मण ग्रंथ 740 18

रसोईदार 195.7

वर्ण सूची 731 4

ब्राह्मण ऋषि

ब्रह्मर्षि 789.8

ब्राह्मण ग्रंथ

ब्राह्मण ग्रंथ 740.18 ⇨

ब्राह्मणः देय उपज

ब्राह्मणः देय उपज 647 28 ⇨

ब्राह्मण धर्म

हिंदू धर्म 737.27

ब्राह्मणवाद

पुरोहितवाद 760.19

हिंदू धर्म 737 27

ब्राह्मण शाप

ब्राह्मण शाप 713.4 ⇨

ब्राह्मण स्त्री

ब्राह्मण स्त्री 731.14 ⇨

ब्राह्मणी

बमनी छिपकली 123.8

ब्राह्मण स्त्री 731.14

ब्राह्मणीय

ब्राह्मणीय 731.35 ⇨

ब्राह्मण्य

ब्राह्मणीय 731.35

ब्राह्म धर्म

ब्रह्म समाज 737.38

ब्राह्म मुहूर्त

ब्राह्म मुहूर्त 47.6 ⇨

ब्राह्म विवाह

ब्राह्म विवाह 799.27 ⇨

ब्राह्म समाज

ब्रह्म समाज 737.38

ब्राह्म सूत्र

ब्रह्म सूत्र 740.50



## भंड

<b>भंड</b>	<b>भंडारण प्रभार</b>	<b>भैंवर कली</b>	<b>धर्मशील</b> 735.13
अश्लील 734 19	भंडार प्रभार 670 7	भैंवर कली 1077.18 ⇨	निष्ठावान 826.9
असुर सूची 783 8	<b>भंडार पति</b>	<b>भैंवर कुंडा</b>	पूजक 751 3
धर्म पाखंडी 825 4	भंडार अध्यक्ष 670 6	भैंवर कुंडा 1077.19 ⇨	प्रशंसक 841 31
बरतन 680 1	<b>भंडार प्रभार</b>	<b>भैंवर जाल</b>	भक्त 752.2 ⇨
भौंड 473 16	भंडार प्रभार 670 7 ⇨	खटाराग 747 4	भक्त 790 6 ⇨
लज्जाहीन 846 8	<b>भंडारा</b>	ग्रामक मार्ग 1063 5	भक्तिपूर्ण 752 20
<b>भंड तपस्वी</b>	अनाज गोदाम 670 18	<b>भैंवर भीख</b>	भात 202 5
धर्म पाखंडी 825 4	आहार वितरण 183 30	मिक्षाटन 642 3	वैष्णव साधु 790 22
नक्रली साधु 790 18	भंडार घर 670 5	<b>भैंवर वात</b>	<b>भक्तजन</b>
<b>भंडना</b>	<b>भंडारा लगाना</b>	भैंवर वात 85.11 ⇨	कथा श्रोता 749 20
निंदा करते घूमना 843 15	आहार वितरण करना 183 37	<b>भैंवरा</b>	भक्त पालक भगवान बालक भाव
विकृत करना 536 4	<b>भंडारित</b>	कीट सूची 122 12	वात्सल्य भाव 752 17
<b>भंडरिया</b>	भंडारित 670 25 ⇨	भ्रमर 122.33	<b>भक्त प्रह्लाद</b>
छोटी दीवार अलमारी 671 3	<b>भंडारित्र (प्र)</b>	लट्टू 480 15	प्रह्लाद 769 22
<b>भैंडरिया</b>	बैटरी 102 18	<b>भैंवरी</b>	<b>भक्त मंडली</b>
धर्म पाखंडी 825.4	<b>भंडारी</b>	गश्त 1083.16	कथा श्रोता 749 20
लफंगा 811 8	कोशाध्यक्ष 630 12	परिक्रमा 1033 3	<b>भक्त वत्सल</b>
<b>भैंडरियापन</b>	छोटी दीवार अलमारी 671 3	भैंवर 1040 24	कृष्ण 771 1
छल 827 7	पोतनीस 1080 23	रोम चक्र 135 8	विष्णु 768 1
लफंगापन 811 3	भंडार अध्यक्ष 670 6	सप्तपदी 800 24	<b>भक्ता</b>
<b>भंडाफोड</b>	विमान पर्सर 1081 6	सौदागर फेरी 1083 17	पूजक 751 3
रहस्योदघाटन 822 6	<b>भंडीर</b>	<b>भैंवेया</b>	<b>भक्ति</b>
<b>भंडाफोड करना</b>	शिरीष 13 21	चक्रणशील 1033 18	निष्ठा 826 1
रहस्य खोलना 822 16	<b>भैंडेरिया</b>	<b>भ</b>	पूजा 751 1
<b>भंडा फोडना</b>	छली 827 24	ग्रह 7 2	भक्ति 752.1 ⇨
रहस्य खोलना 822 16	<b>भैंडेरिया</b>	<b>भइया</b>	भक्ति योग 756 10
<b>भंडाफोड</b>	छोटी दीवार अलमारी 671 3	माई 723 4	विभाजन रेखा 968 12
रहस्योदघाटक 822 26	<b>भैंडेरिया</b>	<b>भकभक !</b>	श्रद्धा 340 5
<b>भंडार</b>	लफंगा 811 8	भकभकाहट 287 26	सभागीकरण 937 2
कोश 630 1	<b>भैंडरी</b>	<b>भकभक करना</b>	<b>भक्ति कर्ता</b>
छोटी दीवार अलमारी 671 3	भंडार घर 670 5	भकभकाना 287 33	भक्त 752 2
ढेर 686 6	<b>भैंडैती</b>	<b>भकभकाना</b>	<b>भक्तिगम्य</b>
दुकान 662 1	भदेसपन 403 3	भकभकाना 287.33 ⇨	शिव 767 1
भंडार 670 3 ⇨	विदूषकता 837 8	<b>भकभकाहट</b>	<b>भक्ति गीत</b>
भंडार घर 670 5	<b>भैंडीआ</b>	भकभकाहट 287.26 ⇨	पूजा गीत 749 25
माल गोदाम 670.22	काव्यहीन कविता 451 17	<b>भकाऊँ</b>	<b>भक्तिच्छेद</b>
संग्रह 669 2	भैंडीआ 450.29 ⇨	हौआ 785.8	धर्म विह्वन 407.7
संग्रहालय 669 8	भदेस 403.6	<b>भकाभक करना</b>	<b>भक्ति: नौ प्रकार</b>
स्टीक 666 9	<b>भंते</b>	भकभकाना 287 33	नवधा भक्ति 762 5
<b>भंडार अध्यक्ष</b>	बौद्ध भिक्षु 790 27	<b>भकुआ</b>	<b>भक्तिपूर्ण</b>
भंडार अध्यक्ष 670 6 ⇨	<b>भंभकडा</b>	प्रष्टी 302.10	भक्तिपूर्ण 752.20 ⇨
<b>भंडारक</b>	बहुत बड़ा छिद्र 271.11	<b>भकोस जाना</b>	<b>भक्ति भाव</b>
भंडार अध्यक्ष 670 6	<b>भैंभरना</b>	पूरा खा जाना 181.34	भक्ति 752.1
भंडारण कर्ता 670 2	भयभीत होना 395 13	<b>भकोसना</b>	भक्ति भाव 752.7 ⇨
<b>भंडार कर्ता</b>	<b>भंभा</b>	अत्याहार करना 182.11	<b>भक्तिमय</b>
भंडारण कर्ता 670 2	छिद्र 271.6	भक्षण करना 181 33	भक्तिपूर्ण 752 20
<b>भंडार घर</b>	डुगडुगी 461 42	सपोटना 181.48	<b>भक्ति मार्ग</b>
भंडार घर 670 5 ⇨	बिल 603 7	<b>भकोसा</b>	भक्ति योग 756.10
<b>भंडारण</b>	<b>भंभीरी</b>	बड़ा प्राप्त 181 28	<b>भक्ति योग</b>
भंडारण 670 1 ⇨	कीट सूची 122 12	<b>भकोसू</b>	भक्ति योग 756.10 ⇨
<b>भंडारण (दे.)</b>	<b>भंय</b>	अत्याहारी 182.15	<b>भक्तिस्नान</b>
एकत्रय 667.1	भू 141 11	सपोटने वाला 181.61	भक्तिपूर्ण 752.20
<b>भंडारण करना</b>	<b>भैंयर</b>	<b>भक्त</b>	<b>भक्ति संप्रदाय</b>
भंडारण करना 670.24 ⇨	भैंवर 1040.24 ⇨	अनुगामी 345.7	भक्ति संप्रदाय 737.39 ⇨
<b>भंडारण कर्ता</b>	भ्रमर 122.33	उबाल पक्व 195.75	<b>भक्षक</b>
भंडारण कर्ता 670 2 ⇨	रोम चक्र 135.8	तीर्थ यात्री 1089.2	भक्षक 181.53 ⇨
		दर्शनार्थी 749 38	



<b>भक्षकार</b>	<b>भग द्वार</b>	मठाधीश 744 1	<b>भगिनी पुत्र</b>
रसोईदार 195 7	भग 152.13	मोक्षगत 257 7	भानजा 722.43
हलवाई 194 15	<b>भग नंदन</b>	विष्णु 768 1	<b>भगिनी पुत्री</b>
<b>भक्षण</b>	विष्णु 768.1	शिव 767 1	भानजी 722 44
चतुर्विध भोजन सूची 181.7	<b>भगना</b>	साधु संन्यासी 790 1	<b>भगिनी भाई</b>
भक्षण 181 10 ⇨	दौड़ना 484 13	सिद्ध 779.17	भाई बहन 723 2
भोजन कर्म 181 4	विस्थापित होना 1036 11	<b>भगवानः अंशावतार</b>	<b>भगिनी भाव</b>
<b>भक्षण (वै.)</b>	<b>भगली</b>	नर (नारायण) 764 18	भगिनीत्व 723 5
दंशान 181 21	छली 827 24	<b>भगवानः दूत</b>	<b>भगेजु</b>
<b>भक्षण करना</b>	बाजीगर 473 18	पैगंबर 791.1	पलायनशील 916 18
भक्षण करना 181 33 ⇨	<b>भगवत</b>	<b>भगवान प्रदत्त</b>	<b>भगेल्</b>
<b>भक्षयिता</b>	ईश्वर 764 1	ईश्वर प्रदत्त 764 37	पलायनशील 916 18
भक्षक 181 53	<b>भगवती</b>	<b>भगवानः प्रसाद</b>	<b>भगोका [भगोकी]</b>
<b>भक्षित</b>	कुलीन स्त्री 728 7	प्रसाद 750 13	पलायित 916.19
भक्षित 181 62 ⇨	देवी 774 1	<b>भगवान बुद्ध</b>	फरार 916 25
<b>भक्षी</b>	पार्यती 776 9	गौतम बुद्ध 793 1	<b>भगोल</b>
भक्षक 181.53	<b>भगवती 774 59 ⇨</b>	<b>भगवान महावीर</b>	नक्षत्र चक्र 4.3
<b>भक्ष्य</b>	योग माया 771 82	महावीर 792 4	<b>भगोलीय अक्षांश</b>
आहार पदार्थ 186 1	विष्णु शक्ति 768 2	<b>भगवान राम</b>	अक्षांश 10 13
<b>भक्ष्य आहार</b>	साधु स्त्री 790 17	राम 770 1	<b>भगोलीय एकक</b>
भक्ष्यम 186 5	स्वय रानी 882 19	<b>भगवान रौतान</b>	अंतरिक्षीय एकक 959.29
<b>भक्ष्यम</b>	<b>भगवत्पट्टी</b>	विपरीतता उपमान सूची 310.13	<b>भगीना</b>
चतुर्विध आहार सूची 186 3	आकाश गंगा 1 14	शत्रुता उपमान सूची 706.22	भिगीना 682.17
भक्ष्यम 186.5 ⇨	गंगा नदी 20 10	<b>भगहा</b>	<b>भग्गु</b>
<b>भखना</b>	<b>भगवद</b>	विष्णु 768 1	पलायनशील 916 18
भक्षण करना 181 33	ईश्वर 764.1	शिव 767 1	पलायित 916 19
<b>भग</b>	<b>भगवद गीता</b>	<b>भगा [भगी]</b>	<b>भग्न</b>
ईश्वर विभूति 764 3	गीता 740 14	पलायित 916 19	एकताहीन 699 14
चदमा 8 2	<b>भगवदीय</b>	विस्थापित 1036 13	नष्ट 531.7
धर्म 735 1	ईश्वर पूजक 751 5	<b>भगाई</b>	भंजित 539 12
बारह आदित्य सूची 777.4	<b>भगवद् कृपा</b>	अपाहरण 862 4	हताश 376 6
भग 152.13 ⇨	ईश्वर दया 834 2	निष्कासन 1092 10	<b>भग्नधित</b>
भग 773 38 ⇨	<b>भगवद् गीता</b>	पति परित्यागिनी पत्नी 804.4	भग्नहृदय 391.33
महत्त्व 852.1	गीता 740 14	<b>भगाना</b>	हताश 376.6
मूत्रेद्रिय 152 8	<b>भगवद् दत्त</b>	अपहरण करना 862.5	<b>भग्नबंध</b>
<b>भगण</b>	ईश्वर प्रदत्त 764 37	अपाहृत करना 862.6	टूटे दौंत वाला 144.18
ग्रहगति 4 9	<b>भगवद् हुम</b>	चलता करना 1092.13	<b>भग्नहर्ष</b>
<b>भगण (SII)</b>	महाबोधि वट 13 18	दुतकारना 855.9	अभिमान मर्दित 911 12
वार्षिक गण सूची 452 43	<b>भगवद् ध्यान</b>	विकर्षित करना 1050.26	<b>भग्ननिद्र</b>
<b>भगत</b>	ज्ञान ध्यान 755 1	विस्थापित करना 1036.12	उद्बोधित 499 10
धर्मशील 735.13	<b>भगवद् भक्त</b>	वेग बहाना 1043.11	<b>भग्न प्रक्रम</b>
निरामिबाहारी 204.5	ईश्वर पूजक 751 5	<b>भगाने वाला</b>	काव्य दोष सूची 453.6
पूजक 751 3	<b>भगवद् भक्ति</b>	अपहर्ता 862 8	<b>भग्नप्रतिज्ञ</b>
भक्त 790.6	ईश्वर पूजा 751 4	अपाहर्ता 862 10	भग्नप्रतिज्ञ 338 49 ⇨
वैष्णव साधु 790.22	<b>भगवद् बचन</b>	<b>भगाथा [भगाई]</b>	<b>भग्नमना</b>
<b>भगत [भगसाइन]</b>	बाइबिल 739.8	अपाहृत 862.9	भग्नहृदय 391.33
भक्त 790.6	<b>भगवद् विग्रह</b>	निष्कासित 1092.18	<b>भग्नमनोरथ</b>
<b>भगत [भगतानी]</b>	ईश्वर मूर्ति 746.3	<b>भगा लाना</b>	असफल 513 4
भक्त 790.6	<b>भगवन्मूर्ति</b>	परनारी को लाना 804.22	<b>भग्नमान</b>
<b>भगत [भगतिन]</b>	ईश्वर मूर्ति 746.3	<b>भगाली</b>	अभिमान मर्दित 911.12
धर्मी कर्मी 747 6	<b>भगया</b>	शिव 767 1	<b>भग्नघत</b>
भक्त 790 6	केसरिया 289 40	<b>भगा से जाना</b>	भग्नप्रतिज्ञ 338 49
<b>भगदक</b>	गेरुआ 289.43	अपाहृत करना 862 6	विधलित 501.11
भगदक 916 8 ⇨	<b>भगवान</b>	<b>भगिनी</b>	<b>भग्नश्री</b>
भागवीड 1084 16	ईश्वर 764.1	बहन 723 6	शोभाहीन 226.12
युद्ध पलायन 916.5	एकः उपमान सूची 948.18	<b>भगिनीत्व</b>	<b>भग्नहृदय</b>
<b>भगदेष</b>	गौतम बुद्ध 793.1	भगिनीत्व 723.5 ⇨	भग्नहृदय 391.33 ⇨
कामुक 237.14	तीर्थकर 792.1		हताश 376 6

## भग्न होना

भग्न होना  
भंजित होना 539.7  
भगनांग  
विकलांग 153.15  
भगनांगला  
विकलांगला 153.2  
भगनांश  
भगनाशशेष 77.5  
भगनाशशेष  
खंडहर 539.5  
भगनाशशेष 77.5 ⇨  
भगनाश  
हतारा 376.6  
भगनासक्त  
विरक्त 366.6  
भगनासक्ति  
विरक्ति 366.2  
भगनाहंकार  
अभिमान मर्दित 911.12  
भग्नैकता  
एकताहीन 899.14  
भग्नक  
लैंगिकी चाल 1084.19  
भग्नकना  
लैंगिकाना 1084.40  
भग्नक  
नक्षत्र चक्र 4.3  
राशिचक्र 4.4  
भग्नन  
जप 749.2  
पूजन 751.2  
पूजा गीत 749.25  
पूजा गीत सूची 749.26  
सूक्त 741.14  
भग्नन करना  
पूजा करना 751.22  
भग्नन कीर्तन  
कीर्तन 749.30  
सत्संग 749.21  
भग्नन गीत  
पूजा गीत 749.25  
भग्नन पूजन  
पूजन 751.2  
भग्नन पूजा  
पूजा 751.1  
भग्नन संकलन  
मजन संकलन 446.25 ⇨  
भग्नना  
जपना 749.39  
द्वुत गमन करना 1044.5  
पूजा करना 751.22  
भग्ननाचली  
भग्नन संकलन 446.25  
भग्ननिया  
भग्ननीक 749.32  
भग्ननी  
कीर्तनकार 749.31

भग्ननीक  
कीर्तनकार 749.31  
भग्ननीक 749.32 ⇨  
भंजित  
पूजित 751.23  
भंजिया  
भूजी 201.19  
भज्य  
पूजनीय 751.24  
भट  
योद्धा 934.15  
सैनिक 934.1  
भटई  
घाटुकारिता 841.17  
भटक  
मार्गध्युति 1099.2  
भटकती आत्मा  
भूत 786.1  
भटकते रहना  
मार्ग न मिलना 1099.6  
भटकन  
आवारागर्दी 1090.3  
दिशाहीनता 1099.3  
दुरधरित्रता 811.1  
मार्गध्युति 1099.2  
भटकना  
आवारागर्दी करना 1090.39  
खोज में भटकना 336.18  
मार्गध्युत होना 1099.5  
मार्ग न मिलना 1099.8  
लक्ष्य ध्युत होना 931.19  
भटका  
ध्यान भंग 331.4  
भटका [भटकी]  
अप्राप्तमार्ग 1099.10  
मार्गध्युत 1099.8  
लक्ष्य ध्युत 931.23  
भटकाऊ  
मार्गध्युत कर्ता 1099.9  
भटकाना  
पट्टी पढ़ाना 332.13  
भटकाने वाला  
मार्गध्युत कर्ता 1099.9  
भटकाय  
आवारागर्दी 1090.3  
दिशाहीनता 1099.3  
दुरधरित्रता 811.1  
ध्यान भंग 331.4  
मार्गध्युति 1099.2  
योजनाहीनता 520.15  
भटकीया  
आवारागर्द 1090.43  
मार्गध्युत कर्ता 1099.9  
भटकीही [भटकीही]  
मार्गध्युत कर्ता 1099.9  
भटभेरा  
मार्ग परिषिद्धता 704.12  
मुठमेक 915.2

भटियारा [भटियारन]  
भटियारा [भटियारन] 194.14  
भटियाली  
भटियाली 457.38 ⇨  
भट्ट  
ब्राह्मण 731.13  
स्वामी 621.2  
भट्टाचार्य  
अध्यापक 323.8  
महा विद्वान 319.3  
भट्टार  
कुलीन पुरुष 728.6  
भट्टारक  
आदरणीय 854.18  
तपस्वी 789.14  
देवता 772.1  
प्रतिष्ठित 849.15  
महा विद्वान 319.3  
मुनि 789.15  
राजा 882.6  
विद्वान व्यक्ति 319.2  
सूर्य 8.1  
भट्टारिका  
कुलीन स्त्री 728.7  
भट्टिनी  
कुलीन स्त्री 728.7  
राजा: पत्नी 882.17  
भट्टा  
भट्टा 1099.9 ⇨  
भट्टी  
बेकरी 109.15  
भट्टी 109.10 ⇨  
मद्य आसवन शाला 82.3  
भट्टी (दे.)  
दाहित्र 109.2  
भटियार चाना  
सराय 1090.33  
भटियारपन  
दुर्जनता 818.1  
भटियारा  
रसोईदार 195.7  
भटियारा [भटियारन]  
भटियारा [भटियारन] 194.14 ⇨  
भटियारा [भटियारी]  
सराय वाला 1090.34  
भटियाल  
भाटा 1040.27  
भटिहारा [भटिहारिन]  
भटियारा [भटियारन] 194.14  
भटिहारा [भटिहारी]  
सराय वाला 1090.34  
भटक  
उत्तेजना 371.4  
कीध 287.20  
तटक भटक 226.4  
मध्य दृश्यता 402.2  
भटकहार  
अत्यलंकृत 227.6

मध्यदृश्यतापूर्ण 402.4  
भटकन  
अग्नि वर्धन 107.3  
भटकना  
अग्नि उद्दीप्त होना 107.11  
उत्तेजित होना 371.7  
क्रुद्ध होना 373.15  
स्फुरण होना 1039.15  
भटका [भटकी]  
उकसाया [उकसाई] 499.12  
उत्तेजित 371.10  
भटकाई  
अग्नि उद्दीपन 107.4  
भटकाऊ  
अग्नि प्रोद्दीपक 107.15  
उत्तेजक 371.12  
भटकाना  
अग्नि उद्दीप्त करना 107.12  
उकसाना 499.6  
भटकाय  
रोग तीव्रता 163.10  
भटकावा  
उकसावा 499.4  
भटकीला [भटकीली]  
अत्यलंकृत 227.6  
उत्तेजनशील 371.11  
तटकभटकदार 226.14  
भटकीलापन  
तटक भटक 226.4  
मध्य दृश्यता 402.2  
भटकु  
उत्तेजनशील 371.11  
भटकेल  
उत्तेजनशील 371.11  
भटभङ  
प्रलाप 428.6  
भटभङाना  
भटभङाना 287.33  
हकबङाना 496.8  
भटभङाहट  
भटभङाहट 287.26  
हकबङी 496.5  
भटभङिया  
जल्दबाज़ 496.12  
डींगबाज़ 842.15  
बकवासी 428.26  
भटभङी  
हकबङी 496.5  
भटभूजा  
भटभूजा 195.23 ⇨  
भटभूजा [भटभूजिन]  
भटभूजा 195.23  
भटभूजा: कङाह 682.6 ⇨  
भटभूजा [भटभूजन]  
भटभूजा 195.23  
भटबा  
वेश्या दलाल 807.9

भकसाई  
भाङ 109.14  
भङाका  
धमाका 296.21  
भङास  
अभिव्यक्ति दृष्टा 428.2  
आवेश 371.1  
तीमोन्नाद 354.8  
संचित आवेश 371.3  
भङिहा  
घोर 864.3  
भङिहाई  
चीर्य वृत्ति 864.1  
भङुआ  
कामुक 237.14  
भङेरिया  
छली 827.24  
छोटी दीवार अलमारी 671.3  
भङैत  
भाङा सैनिक 934.5  
भङोत्री  
भाङा गाङ्गी 1068.11  
भण (प्र)  
टेलीफोन 300.22  
भणन  
कथन 430.1  
भणना  
कहना 430.11  
वर्णन करना 449.19  
भणित  
कथित 430.16  
वर्णित 449.24  
भणिता  
कथन कर्ता 430.18  
वर्णन कर्ता 449.27  
भतयान  
कच्ची दावत 183.7  
भतीजा  
भतीजा 722.24 ⇨  
भतीणी  
भतीणी 722.26 ⇨  
भत्तमभत्ता  
अत्यधिक घुँटा 197.35  
भत्ता  
भत्ता 643.35 ⇨  
मरण पोषण 650.14  
भदंत  
आदरणीय 854.18  
पूजनीय 751.24  
बौद्ध भिक्षु 790.27  
लोकमान्य 849.21  
संन्यस्त 233.11  
भद  
भदर्सना 843.6  
भद उजाना  
ताली पीटना 296.24  
भदमल्ला [भदमल्ला]  
विवर्ण 291.18

भदमल्लापन  
विवर्णता 289.23  
भदेस  
असम्य 734.14  
कुवेशिता 589.5  
भेङ्गीआ 450.29  
भदेस 403.6 ⇨  
भदेसपन  
भदेसपन 403.3 ⇨  
भद  
अपमान 855.1  
भदा [भदी]  
असंगत 439.5  
असम्य 734.14  
कलाहीन 403.4  
कुरूप 156.4  
धब्बेदार 217.7  
नग्न 590.16  
भदेस 403.6  
मलिन 217.6  
विकराल 154.23  
भदापन  
असम्यता 734.1  
कलाहीनता 403.1  
भदी हास्य कविता  
भेङ्गीआ 450.29  
भद्रेकर  
कल्याणकारी 710.21  
भद्र  
कल्याण 710.2  
छलहीन 815.8  
बलराम 771.74  
शिव 767.1  
शिष्ट 733.18  
सज्जन 817.7  
सद्व्यवहारी 830.6  
सभ्य 733.13  
स्वर्ण 95.4  
भद्र [भद्रा]  
उच्च कुलीन 728.15  
भद्रक  
देवदारु 13.10  
भद्रकाय  
सुंदरकाय 158.11  
भद्र काया  
सुंदर काया 158.1  
भद्रकाली  
दुर्गा मूर्ति सूची 746.4  
भद्रकाष्ठ  
देवदारु 13.10  
भद्र कुंभ  
मंगल कलश 796.5  
भद्रता  
शिष्टता 733.7  
सद्व्यवहार 830.1  
सभ्यीकरण 733.1  
भद्रतापूर्ण  
सम्य 733.13

भद्रताली  
तीनताल 458.41  
भद्रबाफ  
चीङ 13.7  
भद्र पुरुष  
कुलीन पुरुष 728.6  
भद्र भाषा  
शिष्ट भाषा 421.24  
भद्रमन्यक  
सुरुचिमन्यक 400.21  
भद्रमन्यता  
सुरुचिमन्यता 400.7  
भद्ररेणु  
ऐरावत 780.5  
भद्र लोक  
कुलीन जन 728.5  
कुलीन समाज 728.4  
भद्र यत्न  
बलराम 771.74  
भद्र व्यवहार  
शिष्टता 733.7  
भद्रश्री  
चंदन 274.20  
भद्र स्त्री  
कुलीन स्त्री 728.7  
भद्रांग  
बलराम 771.74  
भद्रा  
श्रुति स्त्री सूची 789.25  
कृष्ण आठ पत्नी सूची 771.12  
गाय 127.10  
दुर्गा 776.7  
दूब घास 11.10  
द्वादशी 44.18  
द्वितीया 44.8  
पृथ्वी 9.1  
सप्तमी 44.13  
हलदी 281.38  
भद्रावह  
कल्याणकारी 710.21  
भद्रासन  
सिंहासन 595.9  
भद्रिका  
द्वादशी 44.18  
द्वितीया 44.8  
सप्तमी 44.13  
भद्री [भद्रिणी]  
सौभाग्यशाली 260.33  
भद्रेश  
शिव 767.1  
भनक  
अपुष्ट समाचार 440.5  
आहट 297.1  
भनभन  
गुंजार 298.3  
भनभन 298.5 ⇨  
मंद ध्वनि 294.7

भनभनाहट  
भनभन 298.5  
मंद ध्वनि 294.7  
भनेली  
मुँहबोली बहन 723.24  
भनीली  
मुँहबोली बहन 723.24  
भबका  
भबकारा 104.6  
भबकारा  
भबकारा 104.6 ⇨  
भबकी  
भबकी 373.13 ⇨  
भभक  
आवेश 371.1  
उष्णता 104.1  
झल्लाहट 373.10  
भभकता [भभकली]  
उदीप्त (अग्नि) 107.14  
भभकना  
अग्नि उदीप्त होना 107.11  
क्रुद्ध होना 373.15  
विलाप करना 386.23  
भभका  
आसवन उपकरण 82.4  
मद्य आसवन 82.2  
भभकी  
दिखावटी साहस 394.2  
भबकी 373.13  
भभुका  
अंगारा 106.12  
अग्नि ज्वाला 106.8  
अति उष्ण 104.20  
अति क्रुद्ध 373.30  
धिगारी 106.11  
भभुखा  
अति उष्ण 104.20  
भभूत  
भभूत 106.17 ⇨  
भभूत धारी  
भभूत धारी 106.25 ⇨  
भभूत धारी साधु  
भभूत धारी साधु 790.20 ⇨  
भभुतिया  
भभूत धारी 106.25  
भभूत धारी साधु 790.20  
भभूती  
भभूत 106.17  
भभूदर  
गरम राख 106.16  
भमंडल  
राशिघक्र 4.4  
भमीरी  
झींगुर 122.24  
भयंकर  
अदम्य 519.28  
दैत्यकाय 154.24  
नाशक 531.8

## भयंकरता

भयानक 395 25  
विकराल 154.23

### भयंकरता

अदम्यता 519 12  
भयानकता 395 7  
मारकता 251.2

### भयंकर दृश्य

भयानक दृश्य 312 9

### भय

आशका 377 1  
जोखिम 519 5  
भय 395 1 ⇌

### भय (भयानक)

स्थायी भाव सूची 358 4

### भय कंपनी

भय कंपनी 395.2 ⇌

### भय कंपनी (दे.)

कंपन 1039 11

### भय कंपित

भय कपित 395 20 ⇌

### भय कंपित होना

भय कंपित होना 395 14 ⇌

### भय कर्ता

शुकाचार्य 789 23

### भयप्रस्त

भयभीत 395 19

### भयभ्रस्त

आतंकित 395.23

भयभीत 395 19

### भयभ्राण

भय नाश 394 8

### भयभ्राता

पघपिता सूची 717 6

भय नाशक 394 17

### भयदोग्धा

ब्लेकमेलर 864 30

### भयदोहन

ब्लेकमेल 864 29

### भयद्रुत

पलायित 916 19

### भय नाश

भय नाश 394 8 ⇌

### भय नाशक

भय नाशक 394.17 ⇌

### भयनाश करना

भयनाश करना 394 12 ⇌

### भय नाश करना

भयनाश करना 394.12

### भय नाशन

भय नाशन 394 9 ⇌

### भय निवारक

अभय दाता 910.11

### भय निवारण

भय नाशन 394.9

सात्वता प्रदान 393 5

### भयपूर्ण

आतंकपूर्ण 395 22

### भयपूर्वक

भयभीतता 395.30

### भयप्रद

जोखिमपूर्ण 519.20

भयानक 395 25

सकटात्मक 909 21

### भयप्रदता

भयानकता 395 7

### भय भंजक

भय नाशक 394 17

### भयभंजन

भय नाशक 394 17

### भय भंजन

भय नाशन 394 9

### भयभीत

भयभीत 395.19 ⇌

### भयभीत कर्ता

भयानक 395 25

### भयभीतता:

भयभीतता 395.30 ⇌

### भयभीतता

पलायन 916 1

### भयभीत होना

भयभीत होना 395 13 ⇌

### भयभ्रष्ट

पलायित 916 19

### भयमुक्त

भयहीन 394 16

सुरक्षित 908 27

### भयमुक्ति

अभय दान 910.3

भय नाश 394 8

सकट मोचन 910 1

### भय मोचन

भय नाशन 394 9

### भय विह्वल

भय कपित 395 20

### भयशील

कापुरुष 395 29

### भयशीलता

कापुरुषता 395 12

### भय संकेत

संकट. संकेत 909.9

### भय सहित

भयभीतता: 395 30

### भय स्तंभ

सहम 395.3

### भय स्तब्धता

सहम 395.3

### भय स्वप्न

दुस्वप्न 267.3

### भयहरण

भय नाशक 394.17

### भयहीन

भयहीन 394 16 ⇌

साहसी 394 13

सुरक्षित 908.27

### भयहीनता:

साहसपूर्वक 394.18

### भयहीनता

प्रतिरोध 915.1

भयहीनता 394.7 ⇌

### भयानुल होना

आतंकित होना 395.16

### भयानुल

आतंकित 395 23

भयभीत 395 19

### भयानुल

आतंक 395.5

### भयानुल

आतंकित 395 23

### भयानक

असुर दानव दैत्य राक्षस 783 2

गहन (अंधकार) 286 16

निर्दय 835.10

भय 395 1

भयानक 395 25 ⇌

भुतहा [भुतही] 759 20

मारक 251 24

विकराल 154 23

### भयानक (दे.)

सकटात्मक 909 21

### भयानकता

भयानकता 395 7 ⇌

भयानक रस 455 15

### भयानकता (दे.)

विकरालता 154 8

### भयानक दृश्य

भयानक दृश्य 312 9 ⇌

### भयानक रस

नवरस सूची 455 11

भयानक रस 455.15 ⇌

### भयानक रात

कालरात्रि 48 9

### भयानक वस्तु

भयानक वस्तु 395 8 ⇌

### भयानुभूति

आतंकानुभूति 353 8

### भयानुभूति

भयभीत 395 19

### भयानुभूति

आतंकित 395.23

### भयानुभूति [भयानुभूति]

भयानक 395.25

### भयानुभूति

भयानक 395 25

विकराल 154.23

संकटात्मक 909 21

### भयानुभूति

भयानक 395.25

### भयानुभूति

भाई 723.4

### भयानुभूति

आपूर्त 634.33

पूर्णांशिक 940.13

भरा [भरी] 1004.12

लदा [लदी] 1061.24

### -भर

वाहक 1061.20

### भर

सर्व 940.8

### भर आना

छलकना 1032.17

### भरक

जलपक्षी सूची 126.7

### भर जाना

फूलना 988 8

### भरण

डाट 611 28

भंडारण 670.1

भरण पोषण 650 14

भराई 1004.1

भराई सामग्री 1004.4

लदाई 1061 13

वहन 1061.1

### भरण पोषण

पालन पोषण 720 1

भरण पोषण 650 14 ⇌

### भरण पोषण करना

भरण पोषण करना 650 16 ⇌

### भरणणी

नक्षत्र सूची 4 6

### भरण्य

वेतन 643 23

### भरण्यु

अभिपिता 720 12

पालक पोषक 720.20

### भरत

आयुधजीवी 922.11

ऋषि मुनि सूची 789 17

कांसा 94 2

कांस्थकार 680 31

दशरथ: पुत्र सूची 770 35

भरत 126.60 ⇌

भरत 770.40 ⇌

भराई सामग्री 1004.4

राम: भाई सूची 770.5

शबर जाति 732 12

शस्त्रधारी 930.6

सैनिक 934.1

### भरत चरत

भरत शत्रुघ्न 770.43

### भरत नाट्यम

भारतीय शास्त्रीय नृत्य सूची 462.7

### भरत: पत्नी

भरत: पत्नी 770.41 ⇌

मांडवी 770.45

### भरत पुत्र

अभिनेता 464.5

नट 473.10

### भरत: पुत्र सूची

भरत: पुत्र सूची 770.42 ⇌

भरत प्रसू	पुष्ट होना 179.20	धूमना 1033.14	प्रविष्टायन 1094.4
केकेयी 770.24	पुंभित होना 118.8	दुरचरित्र होना 811.4	फुलाई 988.5
भरतः माता	भंडारण करना 670.24	परिक्रमा करना 1033.15	भराई 1004.1 ⇨
केकेयी 770.24	भराई करना 1004.8	बड़बड़ाना 428.15	लदाई 1061.13
भरत मिलाप	भरा जाना 1004.7	भ्रमित होना 342.9	भराई (दे.)
दशहरा उत्सव समूह सूची 57.10	भुगतान करना 634.19	मैंडराना 1033.16	समावेश 1002.1
रामलीला प्रसंग सूची 57.13	युवा होना 231.11	मार्गच्युत होना 1099.5	भराईः कपका
भरत वाक्य	रुद्ध करना 272.7	मार्ग न मिलना 1099.6	बुकरम 580.2
नाट्य अंत सूची 468.25	लादना 1061.17	मार्ग भ्रम होना 1099.4	भराई करना
भरत वाक्य 465.6 ⇨	समृद्ध होना 626.10	लक्ष्य च्युत होना 931.19	पच्चीकारी करना 406.40
समापनः उक्ति सूची 522.7	स्फूर्ति आना 491.6	लुब्ध होना 359.15	भराई करना 1004.8 ⇨
भरत शत्रुघ्न	भरनी	सम्मोहित होना 367.4	भराई सामग्री
भरत शत्रुघ्न 770.43 ⇨	कर्मफल 504.10	भरमाना	भराई सामग्री 1004.4 ⇨
भरत शास्त्र	परछा 582.14	उकसाना 499.6	भरा गला
नाट्य शास्त्र 463.24	बाना 576.9	चकमा देना 819.14	भराईट 299.15
भरता	भरने वाला	पट्टी पढ़ाना 332.13	भरा जाना
अत्यधिक घुंटा 197.35	भरने वाला 1004.11 ⇨	प्रेमानुरक्त करना 368.14	भरा जाना 1004.7 ⇨
पति 803.5	भरपाई	फुसलाना 374.16	भरापान
भरता 201.18 ⇨	आवक पत्र 1054.9	भ्रमित होना 342.9	आवासितता 616.6
भरताम्रज	ऋण मोचन 633.8	लुब्ध होना 359.15	भराईट 299.15
राम 770.1	क्षति पूर्ति 634.16	सम्मोहन करना 367.5	सघनता 1004.5
भरतार	भुगतान 634.3	भरमाया [भरमाई]	भरा पूरा [भरी पूरी]
पति 803.5	रसीद 632.25	भ्रमित 342.10	परिवारयुक्त 726.14
मृति भर्ता 650.29	भरपाई करना	भरमार	पल्लवयुक्त 115.13
भरतिया	क्षति पूर्ति करना 634.23	अत्यधिकता 944.2	पूर्ण विकसित 534.15
कांस्यकार 680.31	भरपूर	सुलभता 943.2	युवा 231.12
भरती	अत्यधिक 944.7	भरवाँ पूरी	समृद्ध 626.11
अनुपयोगी वस्तु 526.1	असमाप्य 943.12	कधीरी 202.28	भरापूरान
पद नियुक्ति 653.6	ऊपर तक भरा 1004.13	भरसक	परिवारयुक्तता 726.3
प्रवेश 1094.1	तृप्त 361.16	यथाक्षमता 487.32	समृद्धि 626.1
भराई 1004.1	तृप्ततः 361.19	भरा [भरी]	भरा पेट
सैन्यीकरण 907.6	प्रबल 487.24	अतिभारग्रस्त 963.15	अक्षुधा 180.2
भरती करना	भरपेट 182.17	अत्यधिक 944.7	भरा महीना
नियुक्त करना 653.24	भरा [भरी] 1004.12	आपूर्त 634.33	वर्षा काल 54.1
भरती की चीज़	युवा 231.12	आवासित 618.23	भराय
अनुपयोगी वस्तु 526.1	शत प्रति शत 947.32	आयेष्ट 371.8	घारण क्षमता 966.4
भरती बलाल	भरपेट	उत्तेजित 371.10	पच्चीकारी 406.32
श्रमिक दलाल 650.4	खाए 181.69	क्रुद्ध 373.28	प्रवेश 1094.1
भरध	भरपेट 182.17 ⇨	जनाकीर्ण 616.29	प्लव सिंघन 548.14
भरत 770.40	भरपेट आहार	दला [दली] 565.27	फुलाव 988.4
लोकपाल 780.6	भरपेट आहार 182.2 ⇨	पल्लवयुक्त 115.13	भरायट
भरदूल	भरपेट खाना	पुष्पिन 118.14	भराई सामग्री 1004.4
भरत 128.60	भरपेट खाना 182.10 ⇨	फूला [फूली] 988.13	रचना विन्यास 527.8
भरद्वाज	भरभराना	भंडारित 670.25	भरिमा
ऋषि मुनि सूची 789.17	फूलना 988.8	भरा [भरी] 1004.12 ⇨	कुटुंब 726.7
भरत 128.60	सोभांचित होना 382.14	मांसयुक्त 132.18	भरिया
भरन	भरभेटा	मांसल 154.33	ढलाई कर्मी 565.8
भराई 1004.1	मुठभेड़ 915.2	रसपूर्ण 84.17	भरने वाला 1004.11
भरना	भरम	लदा [लदी] 1061.24	भरी जवानी
उँडेलना 668.15	गलत क्रहमी 341.4	वनस्पतियुक्त 111.31	यीवन 231.6
उकसाना 499.6	भूल 498.3	संग्रहित 669.19	भरी दुपहरी
उपहार देना 640.10	भ्रम 342.1	भरा [भरी] (बादल)	तप्त मध्याह्न 47.10
क्षति पूर्ति करना 634.23	भरमना	आई 88.27	भरी नींव
युगली करना 843.19	आवारागर्दी करना 1090.39	भराई	गहन निद्रा 266.3
जमाकाशी करना 865.21	आश्चर्य होना 379.5	अत्याहार 182.4	भरुआ
ढलाई करना 585.23	आसक्त होना 385.3	आपूर्ति 634.14	टसर 580.15
नियुक्त करना 653.24	खोज में भटकना 336.18	गड्डा भराई 986.4	भरेठ
पट्टी पढ़ाना 332.13	गर्वांक्ति करना 842.7	घारण क्षमता 966.4	पटाव 600.3

## भरे पेट वाला

### भरे पेट वाला

भरे पेट वाला 182.13 ⇨

### भरैया

भरने वाला 1004 11

### भरोसा

आत्मविश्वास 487 8  
आश्रय भाव 752 12  
दायित्व 895 1  
निष्ठा 826 1  
पूर्ण आशा 375.3  
विश्वास 340 1  
शरण 910 4  
संरक्षणपूर्ण सहायता 700 13

### भरोसा करना

विश्वास करना 340 9

### भरोसी

विश्वासी 340 14  
शरणागत 910 12

### भरोसे

दायित्व पर 895 14

### भरोसेमंद

विश्वासनीय 340 13

### भरोसेमंदी

निष्ठा 826 1  
विश्वासनीयता 340 2

### भरीनी

लदाई 1061 13

### भर्ग

दीप्ति 287 16  
ब्रह्मा 766.1  
भाऊ भुंजाई 195 22  
भुंजाई 195 21

### भर्गित

भुंजा भुंजी 195 70

### भर्जक

भुंजाई कर्ता 195 71

### भर्जन

भाऊ भुंजाई 195 22  
भुंजाई 195.21  
भुरजाई 195 29

### भर्जित

भुंजा भुंजी 195 70

### भर्ता

नियुक्त कर्ता 653 33  
पति 803 5  
भृति भर्ता 650.29  
विष्णु 768 1

### भर्ता [भर्त्री]

दास स्वामी 651 17  
पालक पोषक 720.20

### भर्तार

पालक पोषक 720 20

### भर्त्सना

डॉट 373 11  
घमकी 373 12  
परिग्रह 870 4  
भर्त्सना 843 6 ⇨  
शाप 713 1

### भर्त्सना: उद्गार सूची

भर्त्सना उद्गार सूची 843 28 ⇨

### भर्त्सना करना

डॉटना 373 25  
भर्त्सना करना 843.17 ⇨

### भर्था

आजीविका 650 1

### भर्ताहट

भर्ताहट 299.15 ⇨

### भल-

अच्छा उपसर्ग सूची 313 19

### भल

उत्तम 313 11  
उपकार 832 1

### भलका

गॉस 938.12

### भलमनसाहत

सज्जनता 817 1  
संभ्योकरण 733 1

### भलमनसाहत से

सज्जनतापूर्वक 817.12

### भलमनसी

सज्जनता 817 1

### भला

उपकार 832 1  
कल्याण 710 2  
सौभाग्य 260 17  
स्वीकृति उक्ति सूची 337 28  
हित 712 1

### भला [भली]

उत्तम 313 11  
कल्याणकारी 710 21  
छलहीन 815.8  
पापहीन 813 9  
सज्जन 817.7  
सत्कर्म 814.6  
सद्गुणी 313 15  
सद्व्यवहारी 830.6  
समुद्रिप्रद 626 12  
सुंदर 157 7  
स्वस्थ 161.5

### भला आवयी

कुलीन पुरुष 728.6

### भलाई

उत्तमता 313.1  
उपकार 832.1  
कल्याण 710.2  
सत्कर्म 814 2  
सद्गुण 313 6  
सद्व्यवहार 830 1  
सौभाग्य 260 17

### भलाई करना

सद्व्यवहार करना 830 4

### भलाई का काम

सत्कर्म 814.2

### भला करना

उपकार करना 832.7

### भला काम

सत्कर्म 814.2

### भला घंगा [भली घंगी]

स्वस्थ 161.5

### भला चाहना

कल्याण कामना करना 710 15

### भलापन

उत्तमता 313 1  
सज्जनता 817.1

### भला बुरा

विपरीतता उपमान सूची 310.13

### विमर्श

330 11  
स्पष्टोक्ति 430.4

### भला बुरा कहना

निंदा करना 843 14  
भर्त्सना करना 843 17

### भला बुरा: ज्ञान

विवेक 301.7

### भला मानुष

कुलीन पुरुष 728 6

### भला लगना

शोभांचित होना 226.7

### भला हो

शुभमस्तु 710.31

### भली बात

सुवचन 431 1

### भली बुरी

कल्याण अकल्याण 710.1

### भली / भौति

विधिपूर्वक 514 19  
सुरक्षिततः 908 29

### भली सलाह

सुपरामर्श 332.3

### भले

अथवा 945.13

### भले ही

भले ही 507.19 ⇨

### भल्लनाथ

जांबवान 781.10

### भल्ला

कटलेट 200.15

### भल्लाट

रीछ 127 80

### भल्लूक

रीछ 127.80

### भवत

आप का 316 26

पत्रांतः स्तुति आदि सूची 444.42

### भवसी

पतिव्रता 805.6

साधु स्त्री 790 17

### भवैलिया

पटी नीका 1072.7

### भव

अस्तित्व 246.1

उत्पत्ति 546.5

ब्रह्मांड 1.1

भव 767.28 ⇨

शिव 767.1

शिव: आठ रूप सूची 767.26

### भव घाप

शिव. धनुष 926.12

### भव जाल

आवागमन चक्र 246.3

### भवत [भवती]

आप 316.19

### भवती

विषाक्त बाण 926.17

### भवदीय [भवदीया]

आप का 316.26

पत्रांतः स्तुति आदि सूची 444.42

### भवन

अस्तित्व धारण 246.2

क्षेत्र 34.1

भवन 602.7 ⇨

सभागार 895.1

स्थान 33.1

### भवन (दे.)

स्थापत्य कृति 599.4

### भवन अभियांत्रिकी

निर्माण अभियांत्रिकी 599.10

### भवन आयोजन

निर्माण आयोजन 599.14

### भवन आयोजना

निर्माण परिकल्पना 599 15

### भवन कुरसी

भवन कुरसी 610.5 ⇨

### भवन छत

भवन छत 611.13 ⇨

### भवन निर्माण

भवन निर्माण 599.1 ⇨

### भवन निर्माता

भवन निर्माता 599.2 ⇨

### भवन पति

आवास स्वामी 621.21

### भवन बनाना

भवन बनाना 599.12 ⇨

### भवन शिखर

भवन शिखर 611.1 ⇨

### भवनाश

मोक्ष 257 1

### भवनाशिनी

सरयू 20.21

### भवनाशी [भवनाशिनी]

मोक्षप्रद 257.8

### भवनी

गृहस्थिन 235 4

पत्नी 803.6

### भवनीय

संभव 68.13

### भव बाधा

आवागमन चक्र 246.3

### भवभंजन

अनादि अनंत काल 38.2

ईश्वर 764.1

भव भोग	सुन्दर 157.7	भविष्य वाणी 261.4 ⇨	भस्म करना
संसार भोग 363.5	भविष्यु	भविष्यवादी	धातु दहन करना 108.11
भव मोक्ष	भविष्यु 67.8 ⇨	भविष्यवादी 344.10 ⇨	भस्मगंधा
मोक्ष 257.1	भविष्य कालीन 36.22	भविष्य वेत्ता	रेणुका 274.25
भव मोक्षक [भव मोक्षिका]	भविष्यु (दे.)	ज्योतिषी 261.2	भस्मगाम्त्र
मोक्षप्राप्त 257.8	आगामी 1093.13	भवीला [भवीली]	कामदेव 773.12
भवर्ग	भविष्युता	आन वाला 349.13	भस्म धारी
राशिचक्र 4.4	भविष्युता 67.1 ⇨	भवेश	भभूत धारी 106.25
भव लय	भविष्यु होना	शिव 767.1	भस्मप्रिय
जन्म मृत्यु 246.5	भविष्यु होना 67.3 ⇨	भव्य	शिव 767.1
जीवन मरण 246.4	भविष्य	आलोकित 285.45	भस्मशायी
भव लोक	भविष्य काल 36.14	भविष्यु 67.8	शिव 767.1
इहलोक 258.11	भविष्यकार	भव्यदृश्यतापूर्ण 402.4	भस्मसात
भव विलास	भविष्यवादी 344.10	वर्तमान 66.6	पूर्ण दग्ध 108.16
माया 762.9	भविष्य काल	वैभवशाली 226.15	भस्मायशेष
भव व्यय	भविष्य काल 36.14 ⇨	सभव 68.13	भस्मायशेष 254.2 ⇨
जन्म मृत्यु 246.5	भविष्य काल में	सत्यतापूर्ण 820.20	भस्मित
भव सत्व	अनिकट भविष्य मे 36.36	सुन्दर 157.7	दग्ध 108.13
कृषु पुर्जन के बीच स्थित आत्मा 763.3	भविष्य काल में	भव्यता	दग्ध (धातु) 108.17
भव सागर	भविष्य काल मे 36.34 ⇨	भव्य दृश्यता 402.2	पूर्ण दग्ध 108.16
आवागमन चक्र 246.3	भविष्य कालीन	वैभव 226.5	भस्मिन्न
इहलोक 258.11	भविष्यु 67.8	संगतता 438.1	दाहागार 254.14
भव सागर पार करना	भविष्य कालीन 36.22 ⇨	भव्य दृश्यता	भस्मीभूत
मोक्ष प्राप्त होना 257.6	भविष्य जिज्ञासा	भव्य दृश्यता 402.2 ⇨	दग्ध 108.13
भवांतर	ज्योतिष प्रश्न 261.6	भव्यदृश्यतापूर्ण	पूर्ण दग्ध 108.16
अन्य जन्म 248.4	भविष्यत	भव्यदृश्यतापूर्ण 402.4 ⇨	भस्सङ्ग
भयाघल	भविष्यु 67.8	भव्य देह	कलाहीन 403.4
कैलास शिखर 17.2	भविष्य काल 36.14	सुन्दर काया 158.1	कुडील 155.5
भयात्मज	भविष्यत काल	भसकना	पिलपिला [पिलपिली] 154.32
स्कंद 773.50	क्रिया काल सूची 425.9	सपोटना 181.48	भौंई
भवान	भविष्यता	भसका	खराद कर्मी 564.4
आप 316.19	भविष्युता 67.1	बड़ा प्राप्त 181.28	भाँग
भवानी	भविष्यद	भसम	भाँग 210.1 ⇨
पार्वती 776.9	भविष्य काल 36.14	धातु भस्म 176.20	भाँग कपड़ा
वीर स्त्री उपमान 396.4	भविष्य दृष्टा	भभूत 106.17	भाँग कपड़ा 579.13 ⇨
सती 776.16	भविष्यवादी 344.10	भसान	भाँग: गोली
भवानी पति	भविष्यद् वक्ता	जल अवतारण 1080.9	भाँग: गोली 210.2 ⇨
शिव 767.1	प्रारब्ध वक्ता 261.43	भसाना	भाँग चढ़ाना
भवानी सुत	भविष्य निधि	जलावतारण करना 1080.37	भाँग पीना 210.7
स्कंद 773.50	भविष्य निधि 643.34 ⇨	भसित	भाँगचर्चा
भवायनी	भविष्य पुराण	पूर्ण दग्ध 108.16	भाँग सेवन 210.4
गंगा नदी 20.10	पुराण सूची 740.17	भस्मीड	भाँग छानना
भवितव्य	भविष्य बताना	कमल ककड़ी 189.11	भाँग पीना 210.7
अवश्यभावी 68.15	प्रारब्ध बताना 261.41	भस्मीड	भाँग: नशा
प्रारब्धाधीन 260.27	भविष्य में	कमल मूल 112.14	भाँग: मद 210.3
भविष्यु 67.8	अनिकट भविष्य में 36.36	भसुंड	भाँग पीना
भवितव्यता	भविष्य में	हाथी 127.38	भाँग पीना 210.7 ⇨
अवश्यभावना 68.7	अब के उपरांत 39.17	भसुर	भाँग पुष्प: गाँव
भविता	भविष्य काल मे 36.34	जैठ 724.30	हशीश 212.9
अवश्यभावी 68.15	भविष्य वक्ता	भस्म	भाँग: मद
भविष्यु 67.8	ज्योतिषी 261.2	असुर सूची 783.8	भाँग: मद 210.3 ⇨
भविष्युता 67.1	प्रारब्ध वक्ता 261.43	दग्ध 108.13	भाँग रेशा: कपड़ा
भविल	भविष्यवर्ती	धातु भस्म 176.20	भाँग कपड़ा 579.13
आरंभिक लक्षणयुक्त 317.23	भविष्यु 67.8	पूर्ण दग्ध 108.16	भाँग सेवन
परपुरुष 806.4	भविष्य वाचन	भभूत 106.17	भाँग सेवन 210.4 ⇨
भविष्यु 67.8	प्रारब्ध कथन 261.3	राख 106.15	भाँग सेवी
वैभवशाली 226.15	भविष्य वाणी	भस्मकरण	भाँग सेवी 210.9 ⇨
संभव 68.13	देव वाणी 742.8	पूर्ण दहन 108.2	

## भाँज

### भाँज

तह 975 15  
बटाई 567 9  
भुँजाई 195 21  
भाँजना  
तह करना 975 24  
बटना 567 15  
शस्त्र चलाना 930 5

### भाँजा

भानजा 722 43

### भाँजी

भाँजी 844 4 ⇨

### भाँजी

भानजी 722.44

### भाँजी मारना

भाँजी मारना 844.9 ⇨

### भाँड

कनटेनर 1076.12

### भाँड

घी तेल कुप्पा 678.8

### भाँड

नदी पेटा 25 13

### भाँड

प्रशस्ता गायक सूची 841 12

### भाँड

बरतन 680 1

### भाँड

भाँड 473.16 ⇨

### भाँड

भाण 463 15

### भाँड

विदूषक 467.19

### भाँड

हास्य अभिनेता 464 18

### भाँडक

पण्य सामान 666 5

### भाँड खंड

मृदभांडांश 77 6

### भाँडगीरी

भाँडगीरी 473.15 ⇨

### भाँड जैसा

भदेस 403 6

### भाँडना

आवारागदी करना 1090 39

निंदा करते घूमना 843 15

विकृत करना 536 4

### भाँडपन

भाँडगीरी 473 15

### भाँड पोत

माल पोत 1072 35

### भाँड भगतिए

भाँड 473 16

### भाँड मृत्तिका

कुन्डारी मिट्टी 100 12

### भाँडशाला

मंडार घर 670.5

### भाँड शैली

भदेसपन 403.3

### भाँड

### भाँड

### भाँड

### भाँड

### भाँड

### भाँडा

बरतन 680 1

### भाँडा

भाँडगीरी 473 15

### भाँडागार

कोशागार 630 3

भंडार घर 670 5

मंडार घर 670.5

### भाँडार

मंडार 670 3

मंडार घर 670 5

### भाँडारपाल

मंडार अध्यक्ष 670.6

### भाँडारिक

मंडार अध्यक्ष 670 6

### भाँडारी

मंडार अध्यक्ष 670.6

### भाँडिक

तुरही वादक 461 58

### भाँडीक

अबाबील 126 12

### भाँडियो

भदेसपन 403.3

### भाँडि

अनुसार 514.26

कार्य विधि 514.1

कोटि 936.1

### भाँडि

भाँडि 301.14 ⇨

### भाँडि (बं.)

बोध क्षमता 301 12

### भाँडिना

बोध करना 301 18

भाँडिना 301 19 ⇨

### भाँडि लेना

भाँडिना 301 19

### भाँडि भौय

सनसनाहट 297.39

### भाँडिना

खरादना 564 10

### भाँडि

परिक्रमा 1033 3

सप्तपदी 800 24

### भाँडि

विवाह होना 799 42

### भाँडिरी

परिक्रमा 1033 3

### भा

अथवा 945 13

### भाई

नामात पुरुष उपाधि सूची 856 8

परदा निषिद्ध संबंधी सूची 591 7

भाई 723.4 ⇨

### भाईघार

एकता 698 1

परस्परता 703.1

प्रातृत्व 723 3

रिश्तेदारी 715.5

स्वजन भावना 725 2

### भाई दूज

दीवाली उत्सव समूह सूची 57 16

भाई दूज 57 17 ⇨

### भाईबंध

स्वजन 725.1

### भाईबंधी

रिश्तेदारी 715.5

स्वजन भावना 725.2

### भाईबंधु

स्वजन 725 1

### भाई बहन

भाई बहन 723.2 ⇨

### भाई बहन संबंध

भाई बहन संबंध 723.1 ⇨

### भाई भतीजे

स्वजन 725 1

### भाउ

भाय 358 1

### भाऊ

भाई 723 4

### भाक सी

भाड 109.14

### भाखा

भाषा 421 1

### भाग

उत्तराधिकार 623 1

एक धाव 484.2

क्षेत्र 84 1

खंड 938 1

घक्र चौथा भाग 960 3

घक्र तीसवाँ भाग 960 8

घक्र पचासवाँ भाग 960 10

घतुर्धाश 949 20

दोड़की 484 1

दुत गति 1044.2

नगर खंड 619 5

पलायन 916 1

पुस्तक खंड 447 1

पैदल दौड़ 484 7

प्राप्य अंश 623 8

भाग कर्म 955 13

भाग्य 260 14

यंत्र अवयव 558 18

शेयर 628.13

संभाग 937.1

साझा 621 6

### भागक

विभाजक संख्या 955 15

समागीकरण कर्ता 937 11

### भाग करना

भाग करना 955 22 ⇨

### भाग कर्ता

विभाजक संख्या 955.15

### भाग कर्म

भाग कर्म 955.13 ⇨

### भाग कृत

भाग कृत 955.24 ⇨

### भाग जाना

पलायन करना 916 10

### भागदौड़

बहुविध प्रयत्न 489.3

भागदौड़ 1084.16 ⇨

स्वार्थ साधन 712 6

### भागधेय

प्रारब्ध 260.1

भाग्य 260.14

### भागना

कामचोरी करना 490 7

दौड़ना 484.13

दुत गमन करना 1044.5

पति परित्याग करना 804 21

पलायन करना 916 10

फरार होना 916 16

विकर्षित होना 1050.25

वेग बढ़ना 1043.10

### भागना दौड़ना

बहुविध प्रयत्न करना 489 6

### भाग निकलना

त्राण पलायित होना 916.12

### भाग फल

भाग फल 955 14 ⇨

### भागभभाग

आँख मिचीनी 476 2

भगदड़ 916.8

युद्ध पलायन 916.5

### भाग लेना

सहकर्म करना 700 16

### भागयल

ईश्वर पूजक 751.5

ईश्वरीय 764 35

### भागवत उपदेष्टा

नारायण (नर) 764 19

### भागवत धर्म

भागवत धर्म 737.40 ⇨

वैष्णव संप्रदाय 737.49

### भागवत पुराण

पुराण सूची 740 17

### भागवत रचेता

वेद व्यास 789.21

### भागवत संप्रदाय

वैष्णव संप्रदाय 737.49

### भाग शेर्षा

भाग शेर्षा 955.19 ⇨

### भाग संख्या

मित्र संख्या 949.16

### भागहारी

शेयरधारी 628 31

### भागहीन

पूर्णांशिक 940 13

### भागार्क

मित्र संख्या 949.16

### भागार्श

प्राप्य अंश 623.8

### भाग [भागी]

चुपचाप पलायित 916.20



भागाधिकार  
अंशाधिकार 623.9  
भागाधिकारी  
अशाधिकारी 623.24  
उत्तराधिकारी 623.2  
भागाभाग  
भगट्ट 916.8  
भागिक  
आंशिक 939.11  
भागिनेय  
भानजा 722.43  
भागिनेया  
भानजी 722.44  
भागी  
अशाधिकारी 623.24  
अधिकार भागी 897.16  
आंशिक 939.11  
योग्य 303.14  
साझेदार 621.8  
स्वामी 621.2  
भागी [भागिनी]  
सहकर्मी 700.22  
सुपात्र 303.15  
भागीकरण  
सभागीकरण 937.2  
भागीकृत  
सभागीकृत 937.10  
भागीदार  
साझेदार 621.8  
भागीदारी  
अशाधिकार 623.9  
साझेदारी 621.7  
भागीरथ प्रयत्न  
महान प्रयत्न 489.2  
भागीरथी  
गंगा नदी 20.10  
भागू  
पलायनशील 916.18  
भाग्य  
प्रारब्ध 260.1  
भाग्य 260.14 ⇨  
विभाज्य 699.17  
विभाज्य संख्या 955.18  
सौभाग्य 260.17  
भाग्य अवसान  
दुर्भाग्य आगमन 260.19  
भाग्य क्रम  
भाग्य चक्र 260.15  
भाग्य खेल  
घूत 481.1  
भाग्य चक्र  
कैसीनो चक्र 481.16  
भाग्य चक्र 260.15 ⇨  
भाग्य चक्कना  
सौभाग्य आना 260.24  
भाग्य चेतना  
सौभाग्य आना 260.24

भाग्य जागना  
सौभाग्य आना 260.24  
भाग्य सूचना  
दुर्भाग्य आना 260.25  
भाग्य दोष  
दुर्भाग्य 260.18  
भाग्य पढ़ना  
प्रारब्ध बताना 261.41  
भाग्य परीक्षा  
भाग्य परीक्षा 260.16 ⇨  
भाग्य परीक्षा करना  
भाग्य परीक्षा करना 260.23 ⇨  
भाग्य पलटना  
सौभाग्य आना 260.24  
भाग्यप्रद  
कल्याणकारी 710.21  
भाग्य प्रश्न  
ज्योतिष प्रश्न 261.6  
भाग्य फूटना  
दुर्भाग्य आना 260.25  
भाग्य बौघना  
प्रारब्ध बताना 261.41  
भाग्य योग  
संयोग 69.1  
भाग्य रेखा  
मस्तक रेखा 261.36  
भाग्य लिखित  
प्रारब्ध लिखित 260.31  
भाग्य लेख  
प्रारब्ध लेख 260.6  
भाग्य लेखक  
प्रारब्ध विधाता 260.7  
भाग्यवंत [भाग्यवंती]  
सौभाग्यशाली 260.33  
भाग्यवती  
सुहागन 803.13  
भाग्यवश  
सयोग्यश 69.12  
भाग्यवशात  
प्रारब्धाधीनतः 260.35  
सयोग्यश 69.12  
भाग्य वाचक  
ज्योतिषी 261.2  
भाग्य वाचन  
प्रारब्ध कथन 261.3  
भाग्य वाचन विद्या  
फलित ज्योतिष 261.1  
भाग्यवाह  
प्रारब्धवाद 260.4  
भाग्यवादी  
प्रारब्धवादी 260.29  
भाग्यवान [भाग्यवती]  
धनाढ्य 826.14  
सौभाग्यशाली 260.33  
भाग्य विधाता  
प्रारब्ध विधाता 260.7  
भाग्य विप्लव  
दुर्भाग्य आगमन 260.19

भाग्यशाली  
लाभाप्वित 646.15  
सौभाग्यशाली 260.33  
भाग्यसंपद  
सौभाग्य 260.17  
भाग्य से  
प्रारब्धाधीनतः 260.35  
सयोग्यश 69.12  
भाग्यहीन  
अभावग्रस्त 627.17  
असमृद्ध 627.16  
दुर्भाग्यशाली 260.34  
भाग्यहीनता  
दुर्भाग्य 260.18  
निर्धनता 627.5  
भाग्याधीन  
प्रारब्धाधीन 260.27  
भाग्याधीनता  
प्रारब्धाधीनता 260.2  
भाग्याधीन होना  
प्रारब्धाधीन होना 260.20  
भाग्यास्त  
दुर्भाग्य आगमन 260.19  
भाग्यीय  
प्रारब्धीय 260.26  
भाग्योदय होना  
सौभाग्य आना 260.24  
भाजक  
विभाजक संख्या 955.15  
भाजकांक  
विभाजक संख्या 955.15  
भाजकांश  
शेषहीन विभाजक 955.17  
भाजन  
अधिकार भागी 897.16  
बरतन 880.1  
भाग कर्म 955.13  
-भाजन  
योग्य 303.14  
भाजन  
विभाजन 699.3  
सुपात्र 303.15  
भाजित  
भाग कृत 955.24  
विभाजित 699.16  
सभागीकृत 937.10  
भाजी  
भाजी 201.16 ⇨  
रसेदार भाजी 201.20  
शेयरधारी 828.31  
साग सब्जी 189.1  
भाजी: रत्ता  
भाजी रत्ता 201.24 ⇨  
भाज्य  
विभाज्य 899.17  
विभाज्य संख्या 955.18  
भाज्य संख्या  
भाज्य संख्या 949.12 ⇨

भाज्यांश  
विभाज्य संख्या 955.18  
भाट  
गायक 460.17  
धारण 841.13  
जलधारा 21.15  
नदी पेटा 25.13  
प्रशंसा गायक सूची 841.12  
भाटक  
भाड़ा 622.10  
यात्रा भाड़ा 622.13  
भाटकित  
भाड़ा कृत 622.22  
भाटकी  
भाड़ेदार 622.23  
भाटा  
पथरीली भूमि 987.3  
भाटा 1040.27 ⇨  
भाटित्र  
भाड़ा गाड़ी 1088.11  
भाठ  
खादर 552.5  
जलधारा 21.15  
भाठा  
भाटा 1040.27  
भाठी  
जल प्रवाह 21.9  
भट्ठी 109.10  
भाड़  
भाड़ 109.14 ⇨  
भाड़: कलछा  
भाड़ कलछा 681.4 ⇨  
भाड़: नौद  
भड़भुंजा. कड़ाह 882.8  
भाड़भुंजा [भाड़भुंजी]  
भाड़भुंजा [भाड़भुंजी] 195.72 ⇨  
भाड़ भुंजाई  
भाड़ भुंजाई 195.22 ⇨  
भाड़भुना [भाड़भुनी]  
भाड़भुंजा [भाड़भुंजी] 195.72  
भाड़ा  
भाड़ा 622.10 ⇨  
यात्रा भाड़ा 622.13  
वाहन भाड़ा 622.11  
सामान 1061.6  
भाड़ा कृत  
भाड़ा कृत 622.22 ⇨  
भाड़ा क्रय  
भाड़ा क्रय 660.7 ⇨  
भाड़ा गाड़ी  
टैक्सी 1071.59  
भाड़ा गाड़ी 1088.11 ⇨  
भाड़ा भत्ता  
यात्रा भत्ता 643.39  
भाड़ा: लडाका  
भाड़ा. सैनिक 934.5  
भाड़ा: सेवक  
भाड़ा: सेवक 651.2 ⇨

## भाड़ा: सैनिक

### भाका: सैनिक

भाका: सैनिक 934.5 ⇨

### भाकित्र

भाका गाड़ी 1008.11

### भाके का टट्टू

भाका: सेवक 851.2

भाका: सैनिक 934.5

भाके का सामान  
सामान 1061.6

### भाकेदार

भाकेदार 622.23 ⇨

### भाके पर लेना

भाके पर लेना 622.20 ⇨

### भाण

भाण 463.15 ⇨

### भाण (प्र)

टेलीफोन 300.22

### भात

आहार पदार्थ 186.1

उबाल पक्व 195.75

कच्चा खाना 197.3

भात 202.5 ⇨

भात 802.5 ⇨

### भातई

भातई 801.8 ⇨

### भात दाता

भातई 801.8

### भात: पानी

मॉक 208.17

### भाता [भाती]

पसंद 400.11

प्रिय 369.7

### भाति

दीप्ति 287.16

### भाथी

धीकनी 85.25

### भाढों

भाद्रपद 43.12

### भाद्र

भाद्रपद 43.12

### भाद्रपद

भाद्रपद 43.12 ⇨

भारतीय मास सूची 43.6

### भाद्रपद कृष्ण अष्टमी

जन्माष्टमी 57.7

### भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी

गणेश चतुर्थी 57.5

### भान

ज्ञान 305.1

प्रकारा 287.1

बोध 301.9

सादृश्य आत्मस 309.4

### भानजा

भानजा 722.43 ⇨

### भानजी

भानजी 722.44 ⇨

### भानमती

जादुगरनी 474.12

### भानमती का कुनवा

विश्व सामग्री: उपमान सूची 669.5

### भानमती का पिटारा

विश्व सामग्री: उपमान सूची 669.5

### भानव

सूर्यीय 8.9

### भानवीय

दाहिनी पुतली 141.6

### भाना

खरादना 564.10

पसंद आना 400.10

प्रिय होना 369.6

शोभायित होना 226.7

सुखद लगना 390.9

### भानु

प्रकाश किरण 288.1

राजा 882.6

विष्णु 768.1

शिव 767.1

सूर्य 8.1

### भानुजा

यमुना 20.18

### भानुमान [भानुमती]

सुंदर 157.7

### भानुमुखी

सूरजमुखी 14.25

### भानुवार

रविवार 46.3

### भाप

वाष्प 91.1

### भाप इजन

कोयला इजन 1078.11

वाष्प इजन 1078.3

### भाप गाड़ी

कोयला गाड़ी 1078.12

रेलगाड़ी 1071.66

वाष्प यान 1070.6

### भाप बनना

वाष्प बनना 91.8

### भाप लगाई

वाष्प पक्वन 195.36

### भाभज

माभी 724.26

### भाभी

जेठानी 724.31

भाभी 724.26 ⇨

### भाम

जीजा 724.35

प्रकाश 287.1

### भामक

जीजा 724.35

### भामा

दीप्ति 287.16

सत्यभामा 771.94

स्त्री 236.3

### भा मापी

भा मापी 958.54 ⇨

### भाभिनी

सुंदर स्त्री 157.2

स्त्री 236.3

भाभी [भाभिनी]

क्रोधी 373.29

सुंदर 157.7

### भायीभायी

झार्यंझार्यं 297.21

### भाय

भाई 723.4

### भायहो

बसंता 126.58

### भाया [भाई]

प्रिय 369.7

### भार

कर 647.2

देर 686.6

दायित्व 895.1

देयता 634.4

भार 963.1 ⇨

भार माप 962.1

माल भार 1061.7

लाद 1061.5

### भार ऊर्जा

स्थितिज ऊर्जा 101.3

### भार क्षमता

भार क्षमता 966.5 ⇨

### भार क्षमता सूची

भार क्षमता सूची 966.6 ⇨

### भार क्षय

शुष्कन भार क्षय 89.3

### भार प्रस्त

अतिभारप्रस्त 963.15

### भार प्रस्तता

भारप्रस्तता 963.6 ⇨

### भारजीवी

कुली 1061.4

### भारत

अभिनेता 464.5

अर्जुन 771.36

दक्षेस सदस्य सूची 27.4

भारत 28.1 ⇨

भारत उपमहाद्वीप देश क्षेत्र सूची 27.6

युद्ध 905.4

### भारत (देशांपायन)

महाभारत 771.22

### भारत आप्रवासी ईशानी

पारसी 736.28

### भारत उपमहाद्वीप

भारत उपमहाद्वीप 27.5 ⇨

### भारत उपमहाद्वीप (दे.)

दक्षिण एशिया 27.2

भारत उपमहाद्वीप देश क्षेत्र सूची

भारत उपमहाद्वीप देश क्षेत्र सूची 27.6 ⇨

भारत उपमहाद्वीप: नदी सूची

भारत उपमहाद्वीप: नदी सूची 20.7 ⇨

भारत उपमहाद्वीप: पर्वत सूची

भारत उपमहाद्वीप: पर्वत सूची 17.1 ⇨

### भारत: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार 890.14

### भारत खंड

दक्षिण एशिया 27.2

भारत उपमहाद्वीप 27.5

### भारत छोड़ो आंदोलन

भारत छोड़ो आंदोलन 904.8 ⇨

### भारत दर्शन

भारत दर्शन 1090.10 ⇨

### भारतभूषण

भारतीय अलंकार सूची 854.14

### भारत भ्रमण

भारत दर्शन 1090.10

### भारत माता

भारत 28.1

### भारत यात्रा

भारत दर्शन 1090.10

### भारत रत्न

भारतीय अलंकार सूची 854.14

### भारत: राजधानी

भारत राजधानी 28.2 ⇨

### भारत: राजभाषा सूची

भारत: राजभाषा सूची 421.5 ⇨

### भारत: राष्ट्र ध्वजा

भारत: राष्ट्र ध्वजा 408.7 ⇨

### भारत: राष्ट्रभाषा सूची

भारत राष्ट्रभाषा सूची 421.4 ⇨

### भारत वर्ष

भारत 28.1

### भारत वर्षीय

भारतीय 28.74

### भारतवाद्य

राष्ट्रवाद 884.27

### भारती

भाषा 421.1

वाचा 299.1

सरस्वती 775.8

### भारतीय

भारतीय 28.74 ⇨

### भारतीय अंक

अंतरराष्ट्रीय अंक 948.5

### भारतीय अलंकार सूची

भारतीय अलंकार सूची 854.14 ⇨

### भारतीय उपमहाद्वीप

दक्षिण एशिया 27.2

### भारतीय दंड संहिता

भारतीय दंड संहिता 878.11 ⇨

### भारतीय दर्शन

बड़ दर्शन 760.27

### भारतीय पंजाब

पंजाब 28.46

### भारतीय मानक संस्थान

भारतीय मानक संस्थान 957.4 ⇨

### भारतीय मास सूची

भारतीय मास सूची 43.6 ⇨

### भारतीय राज्य प्रतीक

भारतीय राज्य प्रतीक 408.11 ⇨

भारतीय लिपि: मूल लिपि  
 ब्राह्मी 409.10  
 भारतीय विधि  
 भारतीय विधि 878.9 ⇨  
 भारतीय शास्त्रीय नृत्य सूची  
 भारतीय शास्त्रीय नृत्य सूची 462.7 ⇨  
 भारतीय सेना वीरता चक्र सूची  
 भारतीय सेना वीरता चक्र सूची 857.12 ⇨  
 भारत  
 युद्ध 905.4  
 भारतीय  
 सैनिक 934.1  
 भारद्वाज  
 द्रोणाचार्य 771.63  
 मंगल ग्रह 7.7  
 भारना  
 दबाना 989.8  
 भार पशु  
 भार पशु 127.5 ⇨  
 भार पात्र  
 कनटेनर 1076.12  
 भार भांड  
 कनटेनर 1076.12  
 भारभारी  
 भार वाहक 1061.22  
 भार माप  
 भार माप 962.1 ⇨  
 भार माप एकक  
 भार माप एकक 958.8 ⇨  
 भार मापक  
 तौलने वाला 962.66  
 भार मानन  
 तौलन 962.2  
 भार यष्टि  
 काँवर 1071.20  
 भार यान  
 भार यान 1071.2 ⇨  
 भारयुक्त  
 भारयुक्त 963.11 ⇨  
 भारयुक्तता  
 भारयुक्तता 963.2 ⇨  
 भार वहन  
 भार वहन 1061.2 ⇨  
 भार वहन करना  
 भार वहन करना 1061.16 ⇨  
 भार वहन क्षमता  
 भार वहन क्षमता 1061.12 ⇨  
 भारवाह  
 भार वाहक 1061.22  
 भार वाहक  
 कुली 1061.4  
 भार वाहक 1061.22 ⇨  
 भार वाहक बैल  
 भार वाहक बैल 127.15 ⇨  
 भार वाहक बैल समूह  
 भार वाहक बैल समूह 127.16 ⇨  
 भार बाहन  
 भार यान 1071.2

भारवाही  
 भार वाहक 1061.22  
 भार बांकु  
 पैडुलम 50.28  
 लीवर 1062.3  
 भार शकट  
 भार यान 1071.2  
 भार सीमा  
 भार क्षमता 966.5  
 भारहीन  
 भारहीन 963.12 ⇨  
 भारहीनता  
 भारहीनता 963.3 ⇨  
 भारा [भारी]  
 भारी 963.13  
 भाराकृत  
 अतिभारप्रस्त 963.15  
 भारावतारण  
 माल उतराई 1061.14  
 भारिक  
 कुली 1061.4  
 भार वाहक 1061.22  
 भारित्र  
 भार यान 1071.2  
 भारी  
 अतिभारप्रस्त 963.15  
 अत्यधिक 944.7  
 असह्य 873.14  
 कठिन 519.18  
 कुपाध्य 178.7  
 कूट 823.12  
 गंभीर स्वरीय 299.24  
 दुर्निवार्य 919.10  
 प्रबल 487.24  
 भारयुक्त 963.11  
 भारी 963.13 ⇨  
 स्निग्ध 197.16  
 भारी सञ्चयन  
 भारी उच्चावन 593.5 ⇨  
 भारी ऊनी कंबल  
 भारी ऊनी कंबल 593.9 ⇨  
 भारी काम  
 कठिन कार्य 519.2  
 भारी गदा  
 भारी गदा 593.42 ⇨  
 भारी जल  
 भारी जल 88.4 ⇨  
 भारी तंबू  
 भारी तंबू 800.21 ⇨  
 भारी पढ़ना  
 प्रहार न सहना 919.5  
 भारीपन  
 कठिनता 519.1  
 भारप्रस्तता 963.6  
 भारयुक्तता 963.2  
 भारीपन 963.4 ⇨  
 हंगओवर 211.4

भारी पानी  
 भारी जल 88.4  
 भारी भरकम  
 महाकाय 154.22  
 भारी मन से  
 अनुद्यततः 492.20  
 भारी रात  
 कालरात्रि 48.9  
 भारी वर्षा  
 तीव्र वर्षा 54.11  
 भारी हानि होना  
 दिवाला निकलना 646.14  
 भारूप  
 ब्रह्म 764.24  
 भारोत्तोलक  
 वेटलिफ्टर 486.4  
 भारोत्तोलन  
 वेटलिफ्टिंग 486.3  
 भारोद्भरण  
 लदाई 1061.13  
 भार्गव  
 ज्योतिषी 261.2  
 धनुषधारी 930.13  
 नृसिंहः नौ रूप सूची 769.21  
 परचुराम अवतार 769.28  
 भुंजाई कर्ता 195.71  
 शिव 767.1  
 शुक्राचार्य 789.23  
 हाथी 127.38  
 भार्गव प्रिय  
 हीरा 96.28  
 भार्गवी  
 दुर्गा 776.7  
 पार्वती 776.9  
 लक्ष्मी 775.1  
 भार्य  
 परिवार जन 726.9  
 वाहनीय 1061.19  
 सैनिक 934.1  
 भार्या  
 पत्नी 803.6  
 भार्याट  
 वेष्टा दलाल 807.9  
 भार्याटिक  
 पत्नी सेवक 805.9  
 भाल  
 मस्तक 140.12  
 भाल केश  
 अग्रकेश 137.3  
 भालध्वज  
 गणेश 773.22  
 शिव 767.1  
 भालना  
 खोजना 336.17  
 भाललोचन  
 शिव 767.1  
 भालांक  
 शिव 767.1

भाला  
 भाला 925.4 ⇨  
 भालाधारी  
 भालाधारी 830.16 ⇨  
 भाला: नोक  
 भाला: नोक 925.7 ⇨  
 भाला: फल  
 भाला: फल 925.6 ⇨  
 भाला बरवार  
 भालाधारी 930.16  
 भालि  
 छोटा भाला 925.5  
 भाली  
 कटक 115.4  
 गॉस 938.12  
 भाला: फल 925.6  
 भालू  
 रीछ 127.80  
 भावता  
 प्रेमपात्र 369.4  
 भावता [भावती]  
 प्रिय 369.7  
 भाव  
 अर्थ 426.1  
 अस्तित्व 246.1  
 उत्पत्ति 546.5  
 कल्पना 308.1  
 काव्य शास्त्र: भाव 358.2  
 जन्म कुंडली: स्थान 261.8  
 दर 947.10  
 निष्ठा 826.1  
 परिस्थिति 69.5  
 प्रेम 368.1  
 भाव 358.1 ⇨  
 मूल्य 664.1  
 विचार 330.1  
 श्रद्धा 340.5  
 सारांश 449.12  
 स्थायी भाव 358.3  
 स्वभाव 836.4  
 भाव अनुभूति  
 भाव 358.1  
 भाव अभिव्यक्ति  
 अनुभाव 358.6  
 अभिव्यक्ति 426.1  
 भाव अभिव्यक्ति 358.10 ⇨  
 भावक  
 उत्पादक 546.13  
 कला उपभोक्ता 399.2  
 कला मर्मज्ञ 398.8  
 दर्शक 399.4  
 भावज्ञ 358.27  
 विवेचक 427.31  
 समीक्षक 398.5  
 भावकत्व व्यापार  
 साधारणीकरण 399.16  
 भाव कम प्रयास करना  
 सौदेबाजी करना 658.11

## भाव गिरना

भाव गिरना  
 मंदी होना 664.23  
 भाव गोपन  
 भाव गोपन 358.11 ⇨  
 भाव ग्रहण  
 अभिधा क्रिया 399.13  
 अर्थ ग्रहण 427.2  
 भावज्ञ  
 भाभी 724.26  
 भावज्ञ  
 भावज्ञ 358.27 ⇨  
 भावतः  
 भावपूर्वक 358.31  
 भाव तय होना  
 सीदा तय होना 658.12  
 भावता [भावती]  
 पसंद 400.11  
 प्रिय 369.7  
 भावताय  
 सीदेबाज़ी 658.6  
 भावती  
 प्रेमपात्रा 369.5  
 भावते  
 विचारिततः 330.29  
 भाव त्रास  
 मनोघात 354.3  
 भाव दमन  
 भाव दमन 358.12 ⇨  
 भावन  
 विचारण 330.5  
 सुगंधन 274.2  
 भाव न होना  
 भाव न होना 358.22 ⇨  
 भावना  
 कल्पना 308.1  
 धर्म 735.1  
 भक्ति भाव 752.7  
 भावना 358.13 ⇨  
 श्रद्धा 340.5  
 स्मृति लाभ 356.10  
 भावनात्मक  
 भावपूर्ण 358.25  
 भावनापूर्ण  
 भावपूर्ण 358.25  
 भावुक 358.26  
 भावनापूर्णता  
 भावुकता 358.16  
 भावनापूर्वक  
 भावपूर्वक 358.31  
 भावनायुक्त  
 भावपूर्ण 358.25  
 भावनाहीन  
 अनुभूतिहीन 264.19  
 अभावुक 358.30  
 भावनाहीनता  
 अभावुकता 358.18  
 भाव परिपक्व अवस्था  
 काव्य रस 455.1

भाव परिवर्तन  
 भाव शबलता 358.15  
 भावपूर्ण  
 काव्यात्मक 451.29  
 भावपूर्ण 358.25 ⇨  
 भावुक 358.26  
 भावपूर्णता  
 भावुकता 358.16  
 भावपूर्वक  
 भावपूर्वक 358.31 ⇨  
 भाव प्रतीति  
 यिभाव 358.7  
 भाव प्रदर्शन  
 अनुभाव 358.6  
 अभिनय 464.2  
 सात्त्विक अभिनय 464.27  
 भाव प्रधान  
 भावपूर्ण 358.25  
 भाव प्रवण  
 भावुक 358.26  
 भाव बहना  
 महंगाई होना 664.24  
 भाव बीज  
 प्रथमाक्षरी शब्द 980.7  
 भाव बोधज्ञ  
 भावज्ञ 358.27  
 भाव भंगिमा  
 अंग मुद्रा 464.33  
 नाज़ नखरा 860.1  
 भावमग्न  
 तल्लीन 331.14  
 भावमग्नता  
 तल्लीनता 331.6  
 भाव मुद्रा  
 अंग मुद्रा 464.33  
 भावली  
 बँटाईदारी 553.21  
 भावलीन  
 तल्लीन 331.14  
 भावलीनता  
 तल्लीनता 331.6  
 भावलीन होना  
 तल्लीन होना 331.9  
 भाव वाचक संज्ञा  
 संज्ञा सूची 425.15  
 भाववाच्य क्रिया  
 क्रिया वाच्य सूची 425.7  
 भाव विभोर  
 भाव विभोर 358.28 ⇨  
 भावुक 358.26  
 भाव विभोरता  
 भाव विभोरता 358.14 ⇨  
 भाव विभोर होना  
 भाव विभोर होना 358.20 ⇨  
 भाव विविधता  
 भाव शबलता 358.15  
 भाव विस्तार  
 व्याख्या 427.15

भाव विह्वल  
 भाव विभोर 358.28  
 भाव शबलता  
 भाव शबलता 358.15 ⇨  
 रसानुभूति सूची 455.5  
 भाव शबल होना  
 भाव शबल होना 358.21 ⇨  
 भाव शांति  
 रसानुभूति सूची 455.5  
 भावशील  
 कल्पनाशील 308.15  
 भाव शुद्धि  
 सदाशयता 817.4  
 भावशून्य  
 अनासक्त 366.5  
 भाव शून्यता  
 अनुभूतिहीनता 264.1  
 भाव संधि  
 रसानुभूति सूची 455.5  
 भाव से  
 दर से 947.30  
 भावस्थ  
 भाव विभोर 358.28  
 भाव हिंसा  
 मानसिक हिंसा 251.17  
 भावहीन  
 अकाव्यात्मक 451.30  
 अनुभूतिहीन 264.19  
 अर्थहीन 428.28  
 भावहीन 358.29 ⇨  
 भावहीनताः  
 भावहीनता 358.32 ⇨  
 भावहीनता  
 अनासक्ति 366.1  
 भावहीनता 358.17 ⇨  
 भावहीनता (बे.)  
 अनुभूतिहीनता 264.1  
 भावांतर  
 नई परिस्थिति 69.7  
 भावाबोलन  
 उद्दिग्नता 377.4  
 भावांश  
 सारांश 449.12  
 भावातिरेक  
 भाव विभोरता 358.14  
 भावात्मक  
 काव्यात्मक 451.29  
 भावपूर्ण 358.25  
 भावात्मकता  
 भावुकता 358.16  
 भावाभास  
 भावाभास 358.9 ⇨  
 रसानुभूति सूची 455.5  
 भावाभिनय  
 नूक अभिनय 464.11  
 भावाधित्री प्रतिभा  
 समीक्षकीय प्रतिभा 398.6

भावार्थ<sup>1</sup>  
 अर्थ 426.1  
 मूल तथ्य 820.16  
 सारांश 449.12  
 भावार्थ कथन  
 सारांश 449.13  
 भावाधिष्ट  
 आधिष्ट 371.8  
 भावावेश  
 आवेश 371.1  
 उन्माद 354.4  
 भावास्थाय  
 काव्य रस 455.1  
 भाविक  
 कला मर्मज्ञ 398.8  
 भावज्ञ 358.27  
 मर्मज्ञ 305.35  
 भावित  
 अभिव्यक्त 428.17  
 उपपन्न 328.10  
 काव्य शास्त्र भाव 358.2  
 विचारित 330.19  
 संज्ञात 441.18  
 भावित  
 आरंभिक लक्षण 317.6  
 भविष्यु 67.8  
 भविष्युता 67.1  
 सभावना 68.1  
 भाविनी  
 क्रीडाप्रिय स्त्री 469.7  
 पतिव्रता 805.6  
 व्यभिचारिणी 806.11  
 भावी  
 आगामी 1093.13  
 भविष्यु 67.8  
 भविष्य काल 36.14  
 भविष्य कालीन 36.22  
 भावी [भाविनी]  
 भावुक 358.26  
 सुंदर 157.7  
 भावी अस्तित्व भाव  
 भविष्युता 67.1  
 भावी जन्म  
 भावी जन्म 248.6 ⇨  
 भावी कृत्य  
 प्रवेश क्रौरवर्ड 463.32  
 भावी होना  
 भविष्यु होना 67.3  
 भावुक  
 कला प्रेमी 400.17  
 जीजा 724.35  
 भावुक 358.28 ⇨  
 भावुकता  
 भावुकता 358.18 ⇨  
 भावोत्पन्न  
 भावोदीपन 358.8  
 भावोत्पन्ना  
 हिस्टीरिया 353.8

भाषोदय	हिंदी 421.17	भासता [भासती]	मिडी बाजार
रसानुभूति सूची 455.5	भाषा (बे.)	सादृश्याभासित 309.21	मिथिध सामग्री: उपमान सूची 669.5
भाषोदीपक	वाचा 299.1	भासन	मिथिपाल
भाषोदीपक 358.24 ⇨	भाषा: छायाचक्रण	आलोकन 285 2	डेलवीस 926.6
भाषोदीपन	भाषांग 459.29	भासना	भिक्षुक
भाषोदीपन 358.8 ⇨	भाषा ज्ञाता	घँसना 1031.19	बौद्ध भिक्षु 790.27
भाषोदीपन करना	भाषा ज्ञाता 421.30 ⇨	सादृश्य आमास होना 309.12	भिक्षण
भाषोदीपन करना 358 19 ⇨	भाषाधिकारी	भासमान	भिक्षा याचना 642.2
भाषोदीपन: कारण	वाग्विलासी 421 36	आलोकित 285 45	भिक्षा
विभाव 358 7	भाषा पर अधिकार	भासमानिकी (म)	भिक्षा वस्तु 642.6
भाषोदीप्त	वाग्विलास 421 20	प्रकाश मापिकी 285 32	भिक्षाजीवी
भाषोदीप्त 358.23 ⇨	भाषा भाषी	भासित	भिक्षुक 642 5
भाषोद्रेक	भाषा भाषी 421.31 ⇨	सादृश्याभासित 309 21	भिक्षाजीवी गृहस्थ साधु संश्रावय
भाव विभोरता 358 14	भाषायिद	भासुर	भिक्षाजीवी कृष्य तनु संश्रय 790.21 ⇨
भाषोदीपन 358 8	भाषा : ज्ञाता 421 30	आलोकित 285 45	भिक्षा झोली
वाचारुद्धता 429 8	भाषा शैली	भास्कर	भिक्षा झोली 642.10 ⇨
भाषोन्मत्त	भाषा शैली 421 18 ⇨	आलोकक 285 46	भिक्षाटन
उन्मत्त 354 22	भाषा सौंदर्य	शिय 767.1	भिक्षाटन 642.3 ⇨
भाव विभोर 358 28	शब्दालंकार 454 8	सूर्य 8 1	भिक्षाटन करना
भाषोन्माद	भाषिक	स्यर्ण 95 4	भिक्षाटन करना 642.16 ⇨
उन्माद 354 4	भाषीय 421 29	भास्कति	भिक्षा दाता
भाषण	भाषित	कर्ण 771.47	भिक्षा दाता 642.21 ⇨
उपदेश 430 9	अभिव्यक्त 428 17	वैवस्वत मनु 788 5	भिक्षा दान
कथन 430.1	उच्चारित 411 17	भास्वर	आहार वितरण 183.30
डॉट 373 11	कथित 430 16	आलोकित 285 45	भिक्षा देना
भाषण 430 8 ⇨	भाषिता	दीप्त 287 34	भिक्षा देना 642.17 ⇨
भाषण कक्ष	कथन कर्ता 430 18	भास्वान	भिक्षाघ्न
भाषण कक्ष 695.2 ⇨	भाषण दाता 430 23	अग्नि 106 1	भिक्षाघ्न 642.7 ⇨
भाषण करना	भाषा भाषी 421.31	भिचन	भिक्षा पात्र
भाषण देना 430 13	भाषी	संकुचन 980 9	भिक्षा पांड 642 11
भाषण कर्ता	कथन कर्ता 430 18	भिचना	भिक्षा पांड
भाषण दाता 430.23	भाषण याता 430 23	संकुचित होना 980 15	भिक्षा पांड 642 11 ⇨
भाषण कला	भाषा भाषी 421 3.	भिच्चा [भिची]	भिक्षा पांड सूची
कला सूची 397.12	भाषीय	निष्कर्षित 83.14	भिक्षा पांड सूची 642.12 ⇨
भाषणकुशल	भाषीय 421 29 ⇨	संकीर्ण 980.29	भिक्षा मौंगना
वार्तालाप कुशल 435 25	भाष्य	संकुचित 980.26	भिक्षा मौंगना 642.15 ⇨
भाषण दाता	कथनीय 430 17	भिच्चाई	भिक्षा याचना
भाषण दाता 430.23 ⇨	भाष्य 427.11 ⇨	निष्कर्षण 83.1	भिक्षा याचना 642.2 ⇨
भाषण देना	भाष्य कर्ता	भिच्चा कंठ	भिक्षार्थी
भाषण देना 430.13 ⇨	भाष्यकार 427 29	भिच्चा कंठ 459 37 ⇨	भिक्षुक 642.5
भाषण पिलाना	भाष्यकार 427 29 ⇨	भिच्चापन	भिक्षा वस्तु
डॉटना 373 25	भासंत	संकीर्णता 980.11	भिक्षा वस्तु 642.6 ⇨
भाषण प्रतियोगिता	आलोकित 285.45	भिच्चाय	भिक्षा वृत्ति
वाद विवाद प्रतियोगिता 324 4	चकार्चीय पूर्ण 287.35	संकुचन 980.9	भिक्षा वृत्ति 642.4 ⇨
भाषण मंच	दीप्त 287.34	भिच्चा स्वर	भिक्षाहार
भाषण मंच 695.13 ⇨	भास	भिच्चा कंठ 459.37	पका भिक्षाघ्न 642.8
भाषांग	कल्पना 308.1	संपृत उच्चारण 411.6	भिक्षित
भाषांग 459.29 ⇨	गिद्ध 126.26	भिटा	भिक्षित 642.20 ⇨
राग चार अंग सूची 459.26	जटायु गिद्ध 126.28	बँगन 189.29	भिक्षु
भाषांतर	नर मुरगी 126.85	भिड	बौद्ध भिक्षु 790.27
अनुवाद 427.6	सहसा कल्पना 308.3	भिड 1063.46 ⇨	भिक्षुक 642.5
भाषांतरकार	सादृश्य आमास 309.4	भिडा	साधु 790.16
अनुवादक 427.25	भासक	भिडी 189.30	भिक्षु [भिक्षुणी]
भाषांतरित	आलोकक 285.46	भिडी	भिक्षुक 642.5
अनुवादित 427.24	भासता	भिडी 189.30 ⇨	भिक्षुक
भाषा	दीप्ति 287.16	साग सक्ती सूची 189.4	बौद्ध भिक्षु 790.27
भाषा 421.1 ⇨		भिडी बाजार	भिक्षुक 642.5 ⇨
भाषा शैली 421.18		केलाहलपूर्णता: उपमान सूची 294.33	साधु 790.16

## भिक्षुणी

भिक्षुणी  
बौद्ध भिक्षुणी 790.28  
भिक्षु बाल  
ईसाई मठ 745 10  
भिक्षुमर्गा  
भिक्षुक 642.5  
भिक्षुमर्गापन  
आहार अभाव 627.3  
भिक्षा वृत्ति 642.4  
भिक्षुमर्गी  
भिक्षा वृत्ति 642.4  
भिक्षारी  
भिक्षुक 642.5  
साधु 790.16  
भिक्षोई  
आर्द्रण 88.17  
भिक्षोई 220.16 ⇨  
भिक्षोना  
आर्द्र करना 88.19  
भिक्षोना 220.37 ⇨  
भिक्षोना  
पाक भाड सूधी 682.2  
भिक्षोना 682.17 ⇨  
भिक्षु  
बौद्ध भिक्षु 790.27  
भिक्षुक  
बौद्ध भिक्षु 790.27  
भिक्षुवाई  
प्रेषण 1054.1  
भिक्षुवाना  
भोजना 1054.10  
भिक्षु  
ज्ञानी 305.30  
भिक्षुता  
अभिक्षुता 305.14  
भिक्षुत  
कुरती 486.7  
टक्कर 1051.16  
मुठभेड़ 915.2  
भिक्षुत पोत  
बैटलशिप 1072.49  
भिक्षु  
कीट सूधी 122.12  
भिक्षु 122.34 ⇨  
भिक्षुन  
मुठभेड़ 915.2  
भिक्षुना  
टकराना 1051.31  
डंक मारना 918.25  
मुठभेड़ करना 915.8  
सटना 31.6  
स्पर्श करना 269.9  
भिक्षा [भिक्षी]  
मुठभेड़ प्रस्त 915.12  
सटा [सटी] 31.8  
भिक्षाना  
टकराना 1051.31

भिक्षापन  
सटापन 31.2  
भिक्षारिया  
अंतरावासी 616 16  
आंतरिक 999.12  
घनिष्ठ 704 27  
भिक्षारिया (बल्लभ संप्रदाय)  
पुजारी 744 7  
भिक्षारुसा  
अस्तर 580.1  
लिहाफ़ निघला पल्ला 593 13  
भिक्षारुसा [भिक्षारुली]  
आंतरिक 999 12  
भिक्षि  
दीवार 607.1  
भिक्षिका  
छिपकली 123.7  
डाइक 22 5  
भिक्षिछातन  
चूहा 127.60  
भिक्षि चित्र  
भिति चित्र 404 7 ⇨  
भिक्षि  
विध्यंसक शस्त्र 922 6  
भिक्षक  
इंद्र वष 928.8  
तलवार 924.7  
भिक्षन  
विदरण 544 2  
भिक्षना  
छिदना 271 19  
पैठना 1094 23  
भिक्षा  
कोटि 936.1  
भिक्षा [भिक्षी]  
अंतर्वधित 271 22  
भिक्षिदर  
इंद्र वष 928.8  
भिक्षुर  
अंतर्वधक 271.21  
भंजनशील 539 14  
विदरण 544.2  
विदारक 544.19  
भिक्ष  
कटान 15 6  
वेध्य 518.19  
भिक्षक  
भिनभिन 298 6  
भिक्षकना  
घृणित होना 370.4  
मलिन होना 217.4  
भिक्षभिन  
गुंजार 298.3  
भिनभिन 298.6 ⇨  
भिक्षभिनहट  
भिनभिन 298.6  
भिक्षसार  
प्रभात काल 47.4

भिक्षसारे  
प्रभात मे 47 21  
भिक्ष  
असदृश 310.6  
असमकक्ष 851.6  
असमरूप 967 22  
असामान्य 312.14  
इतर 945 5  
परिवर्तित 532 16  
भिक्ष कोटीय 936 10  
भिक्ष संख्या 949.16  
विविध 310 8  
भिक्षक  
बौद्ध धर्मावलंबी 737.7  
भिक्ष काल  
भिक्ष काल 60.1 ⇨  
भिक्ष काल में  
भिक्ष काल में 60 15 ⇨  
भिक्ष कालीन  
भिक्ष कालीन 60.11 ⇨  
भिक्ष कालीनता  
भिक्ष कालीनता 60.2 ⇨  
भिक्ष केंद्रता  
उत्केद्रता 971.10  
भिक्ष केंद्रीय  
उत्केद्रीय 971 24  
भिक्ष कोटीय  
भिक्ष कोटीय 936.10 ⇨  
भिक्ष कोटीयता  
भिक्ष कोटीयता 936 4 ⇨  
भिक्ष गोत्रता  
विगोत्रता 729.3  
भिक्ष गोत्रीय  
विगोत्र 729.14  
भिक्ष जातीय  
विजातीय 730 19  
भिक्षता  
असमकक्षता 851 2  
असादृश्य 310.1  
इतरता 945.2  
भिक्ष कोटीयता 936.4  
सनक 353.10  
भिक्षदर्शी  
पक्षपाती 885.35  
भिक्ष मत  
परधर्म 735.8  
भिक्ष मतता  
मतभेद 338.4  
भिक्षरूप  
असमरूप 967 22  
भिक्षरूपता  
असमरूपता 967.11  
भिक्ष वर्गीय  
भिक्ष कोटीय 936.10  
भिक्ष वर्गीयता  
भिक्ष कोटीयता 936.4  
भिक्ष व्यक्तित्व  
मनोभाजन 353.12

भिक्ष संख्या  
भिक्ष संख्या 949.16 ⇨  
भिक्षहृदय  
भग्नहृदय 391.33  
भिक्ष होना  
विपरीत होना 310 5  
भिक्षांक (जैसे: ह, 1/3, ह..2/3,  
भिक्ष संख्या 949 16  
भिक्षाना  
धुमेर आना 264 18  
प्रमित होना 342.9  
भिक्षोदर  
सोतेला भाई 723 22  
भिक्षिया  
कहू 189 10  
भिक्षोट  
लोघ्र 14.24  
भिक्षती  
भिक्षती 19.26 ⇨  
भिक्षण  
औषध 176 1  
भिक्षिक्तसक 171 13  
भिक्ष  
कमल ककड़ी 189 11  
भिक्षटा  
विष्ठा 216 2  
भिक्षस  
कमल मूल 112 14  
भिक्षसटा  
पक्का खाना 197 4  
भिक्षसा  
पक्का खाना 197 4  
भिक्षिसटा  
पकवान 200 23  
भीष  
सकुधन 980 9  
भीषना  
दबाना 989 8  
दबाना 989.8  
निष्कर्षित करना 83 11  
रोदना 541 8  
संकुचित करना 980.16  
भीषना  
भाव विभोर होना 358 20  
भी  
अवश्यमेव 68.21  
और 945.10  
भी 945.8 ⇨  
भीष्ठा  
भिक्षात्र 642 7  
भिक्षा वस्तु 642.6  
भीष्ठा का टुकड़ा  
भिक्षात्र 642.7  
भीष्ठा [भीष्ठी]  
आर्द्र 88.27  
फिसलन युक्त 1084.47  
स्वेदित 215.31

भीगापन  
आर्द्रता 88.16  
भीगी रात  
मध्य उपरात रात 48.12  
भीटा  
टीला 16.1  
भीड़  
अत्यधिकता 944 2  
अव्यवस्थित समूह 690.4  
भिड़ 1063 46  
सकट 909 1  
भीड़ भड़क्का  
जनाकीर्णता 616.11  
भागदौड़ 1084.16  
मेला बाज़ार 863 10  
भीड़भाड़  
जनाकीर्णता 616.11  
भीड़हीन  
अजनाकीर्ण 617 15  
भीड़हीनता  
अजनाकीर्णता 617 5  
भीड़ानुगमन  
भीड़ानुगमन 345.4 ⇨  
भीड़ानुगमन (दे.)  
अंधानुकरण 505 9  
भीड़ानुगामी  
भीड़ानुगामी 345.9 ⇨  
भीड़ानुसरण  
भीड़ानुगमन 345 4  
भीत  
दीवार 607.1  
भयभीत 395 19  
भीततः  
भयभीतत 395 30  
भीत में दीड़ना  
कठिन कार्य में लगना 487 16  
भीतर  
अंदर 999 17  
अभ्यतर 985 13  
आंतरिक स्थान 33.5  
गहरे 984 11  
ज्मानस्राना 614 20  
नितल मे 985.20  
प्रवेश संकेत सूची 1094.31  
भीतर करना  
घोंपना 270.14  
भीतर का  
रक्षित (रहस्य) 823 14  
भीतर का रास्ता  
प्रवेश मार्ग 1094.6  
भीतरकोट  
अंदरकोट 620.9  
भीतरघात  
तोड़फोड़ 539.4  
भीतरघाती  
तोड़फोड़ कर्ता 539 19  
भीतर बाहर  
अंदर बाहर 999 16

भीतर भीतर  
अंदर अंदर 999.18  
गुप्ततः 824.29  
भीतरला [भीतरली]  
आंतरिक 999 12  
भीतर बाला  
मन 351.2  
भीतर बाला आँगन  
भीतर बाला आँगन 604.6 ⇨  
भीतर व्यापना  
पैठना 1094 23  
भीतर से  
मनतः 351 9  
भीतरी  
आंतरिक 999.12  
गुप्त 824.20  
घनिष्ठ 704.27  
नितलीय 985 17  
प्रेरणाजन्य 499.7  
मानसिक 351 8  
रक्षित (रहस्य) 823 14  
स्वाभाविक 836.11  
भीतरी छत  
भीतरी छत 611 20 ⇨  
भीतरी तल  
नितल 985 9  
भीतरीपन  
आंतरिकता 999 2  
घनिष्ठता 704.13  
नितलीयता 985 8  
भीतरी बाहरी  
आंतरिक बाह्य 999.11  
भीतरी स्थान  
सीमांतगत स्थान 1001.23  
भीति  
भय 395 1  
भीनना  
तल्लीन होना. 331 9  
भाव विभोर होना 358 20  
भीना [भीनी]  
वसत कालीन 52.3  
सुगंधित 274.31  
सुवासित (आहार) 281 41  
स्वाद्विष्ठ 275.20  
भीम  
अत्यधिक 944 7  
पंच पांडव सूची 771.29  
भयानक 395.25  
भीम 771.76 ⇨  
भीमकाय 154 26  
शिव. आठ रूप सूची 787.26  
सात मरुत सूची 781.4  
भीमक  
दैन्य सूची 783.19  
भीमकर्मा  
परिश्रमी 493.9  
महायोद्धा 934 20

भीमकाय  
भीमकाय 154.26 ⇨  
विकराल 154.23  
भीमकायता  
विकरालता 154.8  
भीम कुमार  
घटोत्कच 771.54  
भीम घंडी  
भीम घंडी 774.60 ⇨  
भीम झूला  
जायट खील 1034 12  
भीमता  
भयानकता 395.7  
विकरालता 154.8  
भीमदर्शन  
विकराल 154.23  
भीमपराक्रम  
शिव 767.1  
भीम पलाशी  
राग रागिनी सूची 457.24  
भीमबल  
अति बलिष्ठ 160.11 ⇨  
भीम रथी  
कालरात्रि 48 9  
भीमरूप  
भीमकाय 154 26  
विकराल 154 23  
भीमवेग  
दुतगामी [दुतगामिनी] 1044.7  
भीम शंकर  
ज्योतिलिग सूची 746.19  
भीमसरट  
डाइनोसौर 123.9  
भीमसेन  
र्म 771.78  
भीमसेनी कुशती  
भीमसेनी कुशती 486.10 ⇨  
भीमा  
दुर्गा 776.7  
रोचना 274.26  
भीमाप्रज  
युधिष्ठिर 771.80  
भीमाधरी  
पार्वती 776.9  
भीरु  
कापुरुष 395.29  
भीरुता  
कापुरुषता 395 12  
भीरुहृदय  
हिरन 127.42  
भीलुक  
रीछ 127.80  
भीषण  
अत्यधिक 944.7  
अदम्य 519.28  
कठिन 519.18  
प्रबल 487.24  
भयानक 395.25

भयानक रस 455.15  
भीष्म 771.77  
शिव 787.1  
भीषण औषधी पानी  
तूफान 85.8  
भीषणकाय  
दैन्यकाय 154.24  
भीषणता  
अदम्यता 519.12  
भयानकता 395.7  
मारकता 251.2  
विकरालता 154.8  
भीषण युद्ध  
भीषण युद्ध 905.7 ⇨  
भीषण वर्षा  
तीव्र वर्षा 54 11  
भीषण संग्राम  
भीषण युद्ध 905.7  
भीषणाकार  
विकराल 154.23  
भीष्म  
भीष्म 771.77  
भीष्म  
असुर दानव दैन्य राक्षस 783.2  
कठिन 519 18  
भयानक 395.25  
भयानक रस 455.15  
भीष्म 771.77 ⇨  
रुद्र 787.34  
शिव 787 1  
भीष्म (पुनर्जन्म)  
छो 773.31  
भीष्म पर्व  
महाभारतः पर्व सूची 771.23  
भीष्मः पिता  
शांतनु 771.89  
भीष्म पितामह  
भीष्म 771.77  
भीष्म प्रतिज्ञा  
दृढ प्रतिज्ञा 339.18  
भीष्मव्रत  
अधिचल 500.15  
भुंजारिया  
जो अंकुर 113.2  
भुंजवा  
भुंजाई कर्ता 195.71  
भुंजवा [भुंजी]  
भरभुंजा 195.23  
भुंजा [भुंजी]  
भुंजा [भुंजी] 195.70 ⇨  
भुंजाई  
तवाः तलाई 195.34  
भाड़ भुंजाई 195.22  
भुंजाई 195.21 ⇨  
भुंजाई करना  
भुंजना 195.51  
भुंजाई कर्ता  
भुंजाई कर्ता 195.71 ⇨

## भुंजित

भुंजित  
भुंजा [भुंजी] 195.70

भुजन  
पृथ्वी 9 1

भुजा  
घुआ 115.9

भुई  
पृथ्वी 9 1

भुई घरा  
तहखाना 612.2

भुकनी  
फर्फूद 549.9

भुकरायीध  
सक्यायध 273 6

भुककक  
मुपित 180 15

भुक्खक  
आहार अभावग्रस्त 627.18  
कंगाल 627.21

भुक्खकपन  
आहार अभाव 627 3

भुक्खक होना  
आहार अभाव होना 627.11

भुक  
अनुभूत 263.10  
उच्छिष्ट 198 11

उपभुक 524.14  
प्राप्तभोजन 181.51

भक्षित 181.62  
भुक 363.13 ⇨

भुकता  
भुकता 363.2 ⇨

भुकभोगी  
अनुभवी 303.17  
भुकभोगी 363.16 ⇨

भुकशेष  
उच्छिष्ट 198.11  
उच्छिष्ट आहार 198.3

भुक्ति  
क्षेत्र 34.1  
ग्रहगति 4.9

ग्रहभोग 4.10  
जनपद समूह 34.7

भोग 750.15  
भोग्य वस्तु 363.3

भोजन कर्म 181.4  
रसानुभूति 455.4

सहन 872.5  
सीमा रेखा 1001.17

भुक्ति पात्र  
भोजन बरतन 680.17

भुखमरी  
आहार अभाव 627.3  
दुर्भिक्ष 627.4

भुखमरी होना  
आहार अभाव होना 627.11

भुखाना  
भूखा होना 180.8

1368

भुगत  
सहन 872.5

भुगतना  
प्रतिफल भोगना 510.8  
सहन करना 872.9

भुगतान  
ऋण मोचन 633 8  
भुगतान 634 3 ⇨

भुगतान (दे.)  
सिपुर्दगी 638.5

भुगतान अकर्ता  
भुगतान अकर्ता 639.18 ⇨

भुगतान अकृत  
भुगतान अकृत 639.17 ⇨

भुगतान आदेश  
पे आर्डर 632.27

भुगतान करना  
ऋण मोचन करना 633 29  
भुगतान करना 634.19 ⇨

भुगतान कर्ता  
भुगतान कर्ता 634.26 ⇨

भुगतान की मींग करना  
भुगतान की मींग करना 634.18 ⇨

भुगतान कृत  
भुगतान कृत 634.25 ⇨

भुगतान न करना  
भुगतान न करना 639.11 ⇨

भुगतान न कर पाना  
दिवाला निकलना 646.14

भुगतान मींग  
भुगतान मींग 634 2 ⇨

भुगतान शेष  
भुगतान शेष 639.2 ⇨

भुगताना  
भुगतान करना 634.19

भुगताया [भुगताई]  
भुगतान कृत 634.25

भुजंग  
नाग 778.12  
सरीसृप 123 1

सर्प 123.10  
भुजंग भोजी  
मोर 126.68

सर्प सूची 123.16  
भुजंगम  
नाग 778.12

राहु 6.4  
सरीसृप 123.1

सीसा 94.14  
भुजंगा  
भुजंगा 126.61 ⇨

सर्प 123.10  
भुजंगारि  
गरुड 777.15

भुजंगिनी  
मादा सर्प 123.11

भुजंगेश  
वासुकि नाग 778.21

भुज  
भुजा 968.27  
भुजा 149.5

शाखा 114.10  
भुज कोटर  
बगल गड़ढा 147 6

भुजग  
सरीसृप 123.1  
सर्प 123 10

भुजपत्र  
भोजपत्र 415 8

भुजपाश  
आलिंगन 237.8

भुजबंद  
बाजूबंद 228.20

भुजबल  
बाहुबल 160.3

भुजमूल  
स्कंध 147.3

भुजयष्टि  
भुजा 149 5

भुजांतराल  
गोदी 721.7

भुजा  
पार्श्व 997.1  
बाहु 149 6

भुजा 149.5 ⇨  
भुजा 968.27 ⇨

शाखा 114.10  
सर्प कुंडली 973.9

सूँड 142.7  
हस्त 149.2

भुजाकृति  
भुजाकृति 969.2 ⇨

भुजिया  
भुजी 195.31  
भुजी 201.19

भुजना  
घबैना 200.6

भुजील  
भुजंगा 126.61

भुज्यु  
भोजन बरतन 680.17

भुट्टा  
बीज समूह 112.9  
भुट्टा 118.4 ⇨

भुतहा  
भूत विषयक 786.14

भुतहा [भुतही]  
भुतहा [भुतही] 759.20 ⇨

भुतहापन  
भुतहापन 759.6 ⇨

भुनगा  
कीट सूची 122.12  
शालभ 122.42

भुनना  
अति क्रुद्ध होना 373 16

दग्ध होना 108.9  
भुनभुनाना  
अति क्रुद्ध होना 373.16

भुना [भुनी]  
अति क्रुद्ध 373.30

भुजा [भुंजी] 195 70  
भुना अनाज आदि  
घबैना 200.6

भुनाई  
तवा तलाई 195 34  
भाड़ भुंजाई 195 22

भुंजाई 195 21  
भुरजाई 195.29

भुना चावल  
भुरभुरा 200.9

भुना धान  
खील 200 8

भुना मांस  
भुना मांस 206.18 ⇨

भुना स्लाइस  
टोस्ट 202 32

भुनी तरकारी  
भुजी 201.19

भुनी बोटी  
क्रोरमा 206.37

भुने छोले  
होले 200.10

भुने होले  
होले 200.10

भुरकना  
भुरकना 668.24

भुरकस  
भुरादा 938.31

भुरका  
भुरा 938.17  
भुरकाव 668.12

भुरकाव  
भुरकाव 668.12  
भुरकी  
मिट्टी: दयात 416.27

भुरकाई  
भुरकाव 668.12

भुरकाव  
भुरकाव 668.12

भुरकी  
भुरकी 668.8

भुरकूट  
भुरकूट 540.15

भुरकुस  
भुरा 938.17  
भुरकूत  
भुरकूत 540.15

भुरकुस निकालना  
घीयाकस से कसना 540.10

भुरजाई  
भुरजाई 195.29 ⇨

भुरजी  
भुरजी 195.30 ⇨

भुजी  
भुजी 201.19



**भुरता**  
भरता 201.18  
**भुरताई**  
मसलाई 541.2  
**भुरभुरा [भुरभुरी]**  
अदृङ 159.18  
गुङा [गुङी] 548.59  
ढहनशील 539.18  
दरदरा [दरदरी] 540.18  
**भुरभुराना**  
ढहना 539.11  
हास होना 531.6  
**भुरभुरी मिट्टी**  
दोमट 100.17  
**भुरहटा**  
प्रमात काल 47.4  
प्रातकालीन अर्धप्रकाश 287.11  
**भुरहरा**  
प्रमात काल 47.4  
प्रातकालीन अर्धप्रकाश 287.11  
**भुरहरे**  
प्रमात मे 47.21  
**भुजित**  
भुंजा [भुंजी] 195.70  
**भुजी**  
अडा भुरजी 206.8  
भुरजी 195.30  
**भुरा [भुरी]**  
गहरा काला 289.38  
**भुलक्कड**  
विस्मरणशील 357.13  
**भुलयाना**  
फुसलाना 374.16  
**भुलाना**  
विस्मरण करना 357.7  
**भुलाया [भुलाई]**  
विस्मृत 357.12  
**भुलाया**  
घकमा 819.9  
फुसलाया 374.10  
सांत्वना 393.4  
**भुवा**  
ब्रह्मा पुत्र सूची 766.10  
व्याहृति सूची 741.24  
**भुव**  
पृथ्वी 9.1  
भुव 773.39 ⇨  
**भुवन**  
आकाश 2.1  
ऋषीला 729.11  
चोदह. उपमान सूची 948.47  
पृथ्वी 9.1  
ब्रह्मांड 1.1  
भवन 602.7  
लोक 258.1  
**भुवन कोश**  
खगोल 1.2

**भुवन त्रय**  
तीन लोक 258.3  
**भुवनांड**  
ब्रह्मांड 1.1  
**भुवनीय**  
ब्रह्मांडीय 15  
**भुवनेश**  
शिय 767.1  
**भुवनेश्वर**  
उड़ीसा राजधानी 28.16  
राजा 882.6  
शिवलिंग सूची 746.17  
**भुवनेश्वरी**  
दुर्गा 776.7  
पार्यंती 776.9  
भुवनेश्वरी 774.61 ⇨  
**भुवलांक**  
सात लोक सूची 256.6  
**भुवलांक निवासी**  
सिद्ध 779.17  
**भुयि**  
पृथ्वी 9.1  
**भुयुंडी**  
काक भुशुडि 770.20  
**भुस**  
डंठल भूसा 114.5  
**भुसुंड**  
सुंड 142.7  
**भुसौरा**  
खोपा 670.13  
भूसा घर 670.21  
**भूक**  
भोक 298.24  
**भूज**  
भाड भूजाई 195.22  
भूजाई 195.21  
**भूजना**  
उत्पीडित करना 391.20  
तवे पर तलना 195.54  
भूजना 195.51 ⇨  
**भूजा**  
घबैना 200.6  
**भूजा [भूजन]**  
भरभूजा 195.23  
**भूजा [भूजिन]**  
भरभूजा 195.23  
**भूजा [भूजी]**  
भूजा [भूजी] 195.70  
भूजाई कर्ता 195.71  
**भूकरी**  
जागीर खिदमती 553.17  
**भू**  
ब्रह्मा पुत्र सूची 766.10  
व्याहृति सूची 741.24  
**भू भुवः स्वः**  
भूर्भुवः स्वः 741.27  
**भू**  
क्षेत्र 34.1

**धलीय धरातल** 25.3  
**पृथ्वी** 9.1  
**भू आकृति परिवर्तन**  
विवर्तनिक संघलन 9.13  
**भू आदि धातु**  
राब्द धातु 423.9  
**भूकंप**  
क्रांति विस्फोट 903.8  
भूकंप 9.17 ⇨  
**भूकंप आदि**  
भौतिक सकट 909.3  
**भूक**  
क्षुधा 180.1  
**भूकश्यप**  
यसुदेव 771.88  
**भूकाक**  
क्रांच 126.23  
**भूकेश**  
बरगद 13.16  
**भूकेशा**  
पिराधिनी 786.9  
राक्षस स्त्री 784.2  
**भू क्रोक**  
भू क्रोक 9.11 ⇨  
भूगर्भ संस्तर सूची 9.8  
**भूक्षेत्र**  
क्षेत्र 34.1  
**भूखंड**  
आवासीय भूखंड 598.3  
क्षेत्र 34.1  
महाद्वीप 26.4  
**भूखंडीय**  
क्षेत्रीय 34.14  
**भूख**  
इच्छा 359.1  
क्षुधा 180.1  
भोग लिप्सा 363.4  
बडक्लेरा सूची 761.19  
**भूख बडाना**  
भूख बडाना 180.10 ⇨  
**भूख मिटाना**  
भूख मिटाना 180.11 ⇨  
**भूख लगना**  
भूखा होना 180.8  
**भूख से**  
क्षुधितत 180.23  
**भूख हडताल**  
भूख हडताल 902.12 ⇨  
**भूखा**  
आहार अभावग्रस्त 627.18  
**भूखा [भूखी]**  
अतृप्त 362.6  
क्षुधित 180.15  
लालसी 359.29  
**भूखापन**  
अतृप्ति 362.2  
**भूखा होना**  
भूखा होना 180.8 ⇨

**भूखे**  
अतृप्ततः 362.7  
अनखाए 181.70  
क्षुधिततः 180.23  
**भूखे रहना**  
उपवास रखना 748.17  
**भूखी**  
क्षुधिततः 180.23  
**भूखी मरना**  
आहार अभाव होना 627.11  
कंगाल होना 627.12  
**भूगणित**  
ज्यामिति 956.1  
**भूगणितय**  
द्विआयानीय 964.23  
**भूगर्भ**  
अंतर्भूमि 999.5  
खान 92.14  
निम्नता उपमान सूची 983.7  
भूगर्भ 9.8 ⇨  
भूगर्भ बर्णायक अंजन  
जादुई काजल 474.20  
**भूगर्भ बिशा**  
निम्न दिशा 983.2  
**भूगर्भ परत**  
भूगर्भ संस्तर 9.7  
**भूगर्भ संस्तर**  
भूगर्भ संस्तर 9.7 ⇨  
**भूगर्भः संस्तर सूची**  
भूगर्भः संस्तर सूची 9.8 ⇨  
**भूगर्भ स्तर**  
भूगर्भ संस्तर 9.7  
**भूगर्भस्थ**  
भूगर्भस्थ 9.22 ⇨  
**भूरोह**  
तहखाना 612.2  
**भूगोल**  
भूगोल विद्या 10.1  
**भूगोलक**  
पृथ्वी अंडाकार मानचित्र 10.18  
पृथ्वी गोला 10.3  
**भूगोलज्ञ**  
भूगोल वेत्ता 10.2  
**भूगोल विद्या**  
भूगोल विद्या 10.1 ⇨  
**भूगोल वेत्ता**  
भूगोल वेत्ता 10.2 ⇨  
**भूगोलाथ**  
भूगोलाथ 10.4 ⇨  
**भूघक**  
सूर्यक्रांति वृत्त 5.13  
**भूघाल**  
भूकंप 9.17  
**भूघालन**  
टैक्सीडिंग 1081.22  
**भूघत्र**  
कुकुरमुत्ता 189.13

## भूछाया

### भूछाया

राहु 8.4

### भूजात

वृष 111.18

### भूजी

भूजी 185.31 ⇌

भूजी 201.19 ⇌

### भूदान

दशरथः सदस्य सूची 27.4

नास्त उपमहादीप देश क्षेत्र सूची 27.6

भूदान 27.13 ⇌

### भूदानः राजधानी

भूदानः राजधानी 27.14 ⇌

### भूदानी

भूदानी 27.28 ⇌

### भूटिया

भूटानी 27.28

### भूक

कूप उत्क्रोत 21.3

दोमट 100.17

### भूडोल

भूकंप 9.17

### भूत

अस्तित्वशाली 246.11

उत्पन्न 546.9

उन्माद 354.4

स्रब्ध 353.11

घटित 75.11

जड़ पदार्थ 78.5

जीव 121.4

तत्त्व 78.6

देव योनि सूची 772.37

पौषः उपमान सूची 948.26

भूत 786.1 ⇌

भूत काल 36.10

भूत कालीन 36.18

भूतपूर्व 65.3

भूत विषयक 786.14

व्यतीत 74.3

स्कंद 773.50

### भूत आना

भूतबाधा होना 759.17

### भूत उतारना

भूत उतारना 759.18 ⇌

### भूत ऋषिः पत्नी

सरूपा 787.24

### भूत कर्ता

ब्रह्मा 786.1

सृष्टि रचेता 529.5

### भूत का पकवान

माया दर्शन 342.4

### भूत काल

क्रिया काल सूची 425.9

भूत काल 36.10 ⇌

### भूत कालीन

भूत कालीन 36.18 ⇌

### भूत की मिठाई

माया दर्शन 342.4

### भूतग्रस्त

भूत बाधाग्रस्त 759.21

### भूत प्राण

जीव जगत 121.3

### भूतघ्नी

तुलसी 13.9

### भूत चढ़ना

भूतबाधा होना 759.17

### भूत धिता

दार्शनिक कर्म 760.2

### भूत छाया

भूत बाधा 759.7

### भूत तत्त्व

जड़ पदार्थ 78.5

### भूतला

भूतला 65.1 ⇌

### भूतधात्री

पृथ्वी 9.1

### भूतनाथ

शिव 767.1

### भूत निवारक बत्ती

भूत निवारक बत्ती 759.10 ⇌

### भूत निवारण

भूत निवारण 759.8 ⇌

### भूत निवारण कर्ता

भूत निवारण कर्ता 759.9 ⇌

### भूतनी

भूतनी 786.2 ⇌

### भूतपति

अग्नि 106.1

### भूत पदार्थ

जड़ पदार्थ 78.5

### भूत पाल

विष्णु 768.1

### भूत पिशाच

असुर आदि 783.3

### भूत पूर्णिमा

शब्द पूर्णिमा 57.26

### भूतपूर्व

पूर्व कालीन 60.14

भूतपूर्व 65.3 ⇌

### भूतपूर्वता

पूर्व कालीनता 60.8

### भूत प्रकृति

भूत प्रकृति 762.2

### भूत प्रेत

भूत 786.1

शिव गण 767.31

### भूत प्रेत (दे.)

असुर आदि 783.3

### भूत प्रेत (रौप)

डेमन 785.5

### भूत बलि

बलि कर्म 754.1

हिंसक बलि 754.4

### भूत बाधा

भूत बाधा 759.7 ⇌

### भूतबाधा (दे.)

मनोरोग 354.1

### भूत बाधाग्रस्त

भूत बाधाग्रस्त 759.21 ⇌

### भूतबाधा होना

भूतबाधा होना 759.17 ⇌

### भूत बाधा होना

भूतबाधा होना 759.17

### भूत भाव

जीवन 246.6

### भूतभावी

विष्णु 768.1

शिव 767.1

### भूत भैरव

भैरव गण सूची 767.33

### भूत महेश्वर

शिव 767.1

### भूत यज्ञ

हिंसक बलि 754.4

### भूतल

थलीय धरातल 25.3

पृथ्वी 9.1

### भूतल दिशा

निम्न दिशा 983.2

### भूत वर्तमान भविष्य

त्रिकाल 36.9

### भूतवाद

भौतिकतावाद 760.22

### भूत विद्या तंत्र

आयुर्वेद आठ अंग सूची 172.7

### भूत विनायक

शिव 767.1

### भूत विषयक

भूत विषयक 786.14 ⇌

### भूत शुद्धि

भूत निवारण 759.8

### भूत सर्ग

जीव जगत 121.3

सृष्टि रचना 529.1

### भूत सामान्य

पंचभूत 78.8

### भूतहंता

भूत निवारण कर्ता 759.9

### भूतहर

गुग्गुल 274.18

### भूतहा

भूत निवारण कर्ता 759.9

### भूतातिक

रुद्र 767.34

### भूता

सरूपा 787.24

### भूतात्मा

आत्मा 763.1

भूत 786.1

विष्णु 768.1

हिरण्य गर्भ 764.32

### भूतादि

ईश्वर 764.1

### भू तार

अर्धग 102.15

### भूतारि

हौग 281.39

### भूतार्थ

घरितार्थ 438.8

वास्तविक 820.23

### भूतावास

विष्णु 768.1

शिव 767.1

### भूतायिष्ट

भूत बाधाग्रस्त 759.21

### भूति

अस्तित्व 246.1

अस्तित्व धारण 246.2

उत्पत्ति 546.5

घटना 75.1

जीवन 246.6

भभूत 106.17

राख 106.15

### भूति वाहन

शिव 767.1

### भूतीय

जीवीय 121.17

### भूतेश

शिव 767.1

### भूतेश्वर

शिव 767.1

### भूतोत्पत्त

भूत बाधा 759.7

### भूदान

भूदान 553.32 ⇌

भूमि दान 641.15

### भूदान (दे.)

भूदान 553.32

### भूदार

सूअर 127.81

### भूदृश्य

प्रकृति चित्र 404.4

### भूदेय

ब्राह्मण 731.13

शिव 767.1

### भूधर

जमींदार 553.14

पर्यंत 16.3

शिव 767.1

सातः उपमान सूची 948.30

### भूधारण

भूमि धारण 553.8

### भून

भाऊ भूजाई 195.22

भूजाई 195.21

भून न जाना

न भूलना 356.13

### भूनना

तबे पर तलना 195.54

भूजना 195.51

- भुनाग**  
 केचुआ 122 7  
**भूप**  
 राजा 882.6  
**भूपटल**  
 संपूर्ण धरातल 25.1  
**भूपति**  
 ईंद्र 773 5  
 जमींदार 553 14  
 राजा 882 6  
**भू परपटी**  
 भूगर्भ संस्तर सूची 9 8  
 भू परपटी 99 ⇨  
**भूपर्पटी**  
 भू परपटी 9 9  
**भूपर्पटी संघलन**  
 विवर्तनिक संघलन 9 13  
**भूपाल**  
 राजा 882 6  
**भूपाली**  
 राग रागिनी सूची 457.24  
**भूपृष्ठ**  
 संपूर्ण धरातल 25.1  
**भूपृष्ठ संघलन**  
 भूपृष्ठ संघलन 9.12 ⇨  
**भू प्रावार**  
 भूगर्भ. सस्तर सूची 9 8  
 भू प्रावार 9.10 ⇨  
**भूबल**  
 गरम राख 106 16  
 गरम रेत 100 3  
**भूभल**  
 गरम रेत 100.3  
**भूभाग**  
 क्षेत्र 34.1  
**भूभागीय समुद्र**  
 भूभागीय समुद्र 24.3 ⇨  
**भूभुर**  
 गरम रेत 100.3  
**भूभुरि**  
 गरम राख 106.16  
**भूमध्य रेखा देशांशः** मिनट/लिप्ता 1  
 समुद्री मील 959.26  
**भूमध्य रेखा से उत्तर-दक्षिण दूरी**  
 अक्षांश 10 13  
**भूमध्य सागर**  
 भूमध्य सागर 24.19 ⇨  
**भूमथी**  
 छाया 774.36  
**भूमा**  
 पृथ्वी 9.1  
 विराट पुरुष 764.22  
 विशाल संख्या 949.5  
**भूमापक**  
 क्षेत्र मापक 599.18  
**भूमापत्र**  
 भूसर्वेक्षण 599.16
- भूमि**  
 आधार 596.1  
 आधार भुजा 968.30  
 एक. उपमान सूची 948.18  
 कृषि भूमि 552 1  
 क्षेत्र 34.1  
 तर्काधार 325.7  
 थलीय धरातल 25.3  
 देश 34 10  
 पृथ्वी 9 1  
 भूसंपत्ति 624.11  
 सीता माता 770.87  
 स्वदेश 34 12  
**भूमि अभिलेख**  
 पटवारी बही 553 12  
**भूमि उद्भेदन**  
 उद्भेदन 117 4  
**भूमि उर्वर करना**  
 भूमि उर्वर करना 552 15 ⇨  
**भूमि उर्वरण**  
 भूमि उर्वरण 552.9 ⇨  
**भूमि उर्वरता**  
 भूमि उर्वरता 552.8 ⇨  
**भूमि कर**  
 भूमि कर 647 8 ⇨  
**भूमिका**  
 कथा प्रस्तावना 466 13  
 चरित्र पात्र 467.1  
 पात्र भूमिका 467.2  
 पूर्व पीठिका 466 17  
 भूमिका 447.8 ⇨  
**भूमि कौल**  
 खूटा 555.11  
**भूमिगत**  
 भूमिगत 824.23 ⇨  
**भूमिगत जलधारा**  
 भूमिगत जलधारा 21.16 ⇨  
**भूमिगतता**  
 भूमिगतता 824.6 ⇨  
**भूमिगत नदी**  
 भूमिगत जलधारा 21.16  
**भूमिगत नाला नाली**  
 भूमिगत नाला नाली 23.7 ⇨  
**भूमिगत पारपथ**  
 भूमिगत पारपथ 1064.14 ⇨  
**भूमिगत मार्ग**  
 सुरंग 1065 1  
**भूमिगत रेलगाड़ी**  
 भूमिगत रेलगाड़ी 1071.88 ⇨  
**भूमिगत रेलमार्ग**  
 भूमिगत रेलमार्ग 1066.19 ⇨  
**भूमिगत होना**  
 भूमिगत होना 824.16 ⇨  
**भूमिगत**  
 कैट 127.27  
**भूमिगुप्त**  
 गका [गकी] 1016.46
- भूमिगृह**  
 तहखाना 612.2  
**भूमि गोला**  
 पृथ्वी. गोला 10.3  
**भूमिज**  
 खनिज 92.1  
**भूमिज रंग**  
 खनिज रंग 290.2  
**भूमिजा**  
 सीता 770.86  
**भूमिजीवी**  
 कृषक 548.2  
**भूमि तल**  
 भूमि तल 812.3 ⇨  
 संपूर्ण धरातल 25.1  
**भूमिति**  
 ज्यामिति 956 1  
**भूमि दर्शन**  
 थल दर्शन 1080 11  
**भूमि दान**  
 भूमि दान 641.15 ⇨  
**भूमिधर**  
 जमींदार 553.14  
 पर्यंत 16 3  
 रोचनाग 778.22  
**भूमि धारण**  
 भूमि धारण 553.8 ⇨  
**भूमि धारण अवधि और कर्त**  
 भूमि धारण अवधि और कर्त 553.9 ⇨  
**भूमि धारण पत्र**  
 भूमि धारण पत्र 553.10 ⇨  
**भूमिपति**  
 क्षत्रिय 731.19  
 भूस्वामी 621.20  
**भूमि पत्तन**  
 अंतरिक्ष पत्तन 1069.22  
**भूमिपाल**  
 क्षत्रिय 731.19  
**भूमि पिशाच**  
 ताक 13 8  
**भूमि पूजन**  
 भूमि पूजन 598.4 ⇨  
 शुभ आरंभः कृत्य सूची 521.3  
**भूमि पूजा**  
 भूमि पूजन 598.4  
**भूमि मापन**  
 क्षेत्र मापन 599.17  
**भूमिया**  
 कृषक 548.2  
 जमींदार 553.14  
 देवता 772.1  
**भूमिउह**  
 वृक्ष 111.18  
**भूमि लवण**  
 शोरा 87.16  
**भूमिलेप**  
 गोबर 110.12
- भूमि विवरण**  
 पटवारी बही 553.12  
**भूमि शब्दा**  
 मृत्यु शब्दा 249.11  
**भूमिशायी**  
 भूमिशायी 1027.21 ⇨  
**भूमि सर्पण**  
 भूसर्पण 9.14  
**भूमि कुचार**  
 कृषि व्यवस्था कुचार 553.31  
**भूमिस्पृक**  
 लंगका लूला 153.20  
**भूमि स्वाभित्त्व**  
 जमींदारी 553.13  
**भूमि स्वामी**  
 भूस्वामी 621.20  
**भूमिहर**  
 कृषक 548.2  
**भूमिहार**  
 भूमिहार ब्राह्मण 731.17  
**भूमिहार ब्राह्मण**  
 भूमिहार ब्राह्मण 731.17 ⇨  
**भूमिहीन**  
 सर्वहारा 627.23  
**भूमिहीन कृषक**  
 भूमिहीन कृषक 553.25 ⇨  
**भूनीय**  
 थलीय 25.30  
 देसीय 34.17  
 पृथ्वीय 9.21  
 भूसंपत्तीय 624.19  
**भूया**  
 पुनः 73.5  
 प्रायः 73.7  
 सुलभतः 943.7  
**भूयसी**  
 अत्यधिक 944.7  
**भूयाति**  
 नाइट्रोजन 86.6  
**भूयिष्ठ**  
 अत्यधिक 944.7  
 सुलभ 943.10  
**भूयिष्ठता**  
 अत्यधिकता 944.2  
**भूर**  
 रेत 100.1  
**भूरा**  
 बुरादा 938.31  
**भूरा [भुरी]**  
 कत्थाई 289.36  
**भूरा कर्पू**  
 पेठा 189.27  
**भूरा कोयला**  
 लिग्नाइट 110.11  
**भुरि**  
 अधिक 944.5  
 पर्याप्त 941.6  
 पुनः 73.5

## भूरिगंधा

प्रायः 73.7  
**भूरिगंधा**  
 मुरा 274.24  
**भुरिता**  
 अत्यधिकता 944.2  
**भुरितेजा**  
 स्वर्ण 95.4  
**भुरिपुष्पा**  
 सोआ 189.37  
**भुरिभाग्य**  
 सीभाग्यशाली 260.33  
**भुरी जाति**  
 भुरी जाति 730.11 ⇌  
**भूर्ज**  
 भोजपत्र 415.8  
**भूर्जपत्र**  
 भोजपत्र लेख 77.9  
**भूर्जित**  
 भूर्जा [भूर्जी] 195.70  
**भूर्भुक् स्वः**  
 तीन लोक 258.3  
**भूर्भुक् स्वः 741.27 ⇌**  
 व्याहृति सूची 741.24  
**भूर् भुक् स्वर्**  
 भूर्भुक् स्वः 741.27  
**भूर्लोक**  
 पृथ्वी 9.1  
**भूल**  
 भूल 498.3 ⇌  
 भ्रम 342.1  
 विस्मरण 357.5  
 विस्मृति 357.4  
**भूल कर्ता**  
 भूल कर्ता 498.7 ⇌  
**भूल चूक**  
 भूल चूक 498.2 ⇌  
**भूल न करना**  
 सावधान होना 497.3  
**भूलना**  
 असावधान होना 498.4  
 क्षमा करना 872.6  
 मार्गध्युत होना 1099.5  
 मार्ग भ्रम होना 1099.4  
 विस्मरण करना 357.7  
 शोक विस्मृत करना 393.17  
 शोक विस्मृत होना 393.16  
**भूलना [भूलनी]**  
 विस्मरणशील 357.13  
**भूल बोध**  
 पाप बोध 813.3  
**भूलभूलैयी**  
 भ्रामक मार्ग 1063.5  
**भूलभूलैयी (दे. भ्रामक मार्ग)**  
 गोरखधंधा 333.18  
**भूल चुबार**  
 भूल चुबार पृष्ठ 447.9  
**भूल चुबार पृष्ठ**  
 भूल चुबार पृष्ठ 447.9 ⇌

**भूलहीनतः**  
 सावधानतः 497.6  
**भूलहीनता**  
 सावधानी 497.1  
**भूल होना**  
 भूल होना 498.5 ⇌  
**भूला [भूली]**  
 मार्गभ्रत 1099.7  
 विस्मृत 357.12  
 स्मृतिनष्ट 357.10  
**भूला विस्तरा [भूली विस्तरा]**  
 अख्यात 848.5  
 अस्मृत 357.9  
 विस्मृत 357.12  
**भूला भटका [भूली भटकी]**  
 मार्गध्युत 1099.8  
 विस्मृत 357.12  
**भूलोक**  
 सात लोक सूची 258.6  
**भूलोक प्रभु**  
 मनु 788.1  
**भूविज्ञान**  
 भूविज्ञान 9.4 ⇌  
**भूविज्ञानिकी**  
 भूविज्ञान 9.4  
**भूविज्ञानिकी विद**  
 भूविज्ञानी 9.5  
**भूविज्ञानी**  
 भूविज्ञानी 9.5 ⇌  
**भूविद्यर्तन**  
 विद्यर्तनिक संघलन 9.13  
**भूवृत्तांत**  
 भूगोल विद्या 10.1  
**भूवैज्ञानिक**  
 भूविज्ञानी 9.5  
**भूराय**  
 शिव 767.1  
**भूरायी**  
 धराशायी 1027.22  
**भूशास्त्र**  
 भूविज्ञान 9.4  
**भूशास्त्री**  
 भूविज्ञानी 9.5  
**भूषण**  
 आमूषण 228.1  
**भूषा**  
 वेरा 589.1  
 सजधज 226.6  
**भूषित**  
 अलंकृत 227.4  
 वेशित 589.25  
 सजा धजा [सजी धजी] 226.13  
**भूसंधि**  
 धलप्रीया 26.11  
 द्रुमध्य 141.12  
**भूसंपत्ति**  
 जमींदारी 553.13  
 भूसंपत्ति 624.11 ⇌

**भू संपत्ति सूची**  
 भू संपत्ति सूची 624.12 ⇌  
**भूसंपत्तिहीन**  
 सर्वहारा 627.23  
**भूसंपत्तीय**  
 भूसंपत्तीय 624.19 ⇌  
**भूसंपदा**  
 भूसंपत्ति 624.11  
**भूसमतल**  
 समतल भूमि 986.3  
**भूसर्ग**  
 घेतन जगत 121.1  
**भूसर्पण**  
 भूसर्पण 9.14 ⇌  
**भूसर्वक्षण**  
 भूसर्वक्षण 599.16 ⇌  
**भूसा**  
 अनाजः छिलका 116.8  
 छीलन 938.19  
 डंठलः भूसा 114.5  
**भूसा अलग करना**  
 ओसाना 548.41  
**भूसा गारा**  
 भूसा गारा 100.10 ⇌  
**भूसा घर**  
 भूसा घर 670.21 ⇌  
**भूसाघर**  
 भूसा घर 670.21  
**भूसाः घेरा**  
 खोंपा 670.13  
**भूसाः जाली**  
 खरिया 673.19  
**भूसा भरा होना**  
 मुर्ख होना 302.5  
**भूसिंघन**  
 सिंघन 548.13  
**भूसी**  
 अनाजः छिलका 116.8  
 छीलन 938.19  
 डंठलः भूसा 114.5  
 तुष 526.5  
 बूर 526.11  
**भूसखलन**  
 भूसखलन 9.15 ⇌  
**भू स्तर**  
 भूगर्भ संस्तर 9.7  
**भूसर्पवन**  
 भूसर्पवन 9.16 ⇌  
**भूसर्षा**  
 टचडाउन 1081.27  
**भूस्वर्ग**  
 सुमेरु 17.17  
**भूस्यामी**  
 भूस्यामी 621.20 ⇌  
**भृंग**  
 गुबरला 122.18  
 झारी 679.19  
 पिङ्ग 122.34

भ्रमर 122.33  
 मधुमक्खी 122.39  
**भृंगक**  
 भ्रमर 122.33  
**भृंगज**  
 अगरु 274.11  
**भृंगरोल**  
 कीट सूची 122.12  
 भृंगरोल 122.35 ⇌  
**भृंग बल्लभा**  
 गुल दाऊदी 14.10  
**भृंगार**  
 घड़ा 679.1  
 झारी 679.19  
 बरतन 680.1  
**भृंगारक**  
 बरतन 680.1  
**भृंगारी**  
 झींगुर 122.24  
**भृंगी**  
 नदी 767.14  
 बरगद 13.16  
 शिवः पुत्र सूची 767.22  
**भृङ्गश**  
 स्त्री पात्रः पुरुष अग्निनेता 464.10  
**भृङ्गटि**  
 भृङ्ग भंगिमा 284.9  
**भृङ्गटी**  
 भृङ्ग 141.11  
**भृङ्गु**  
 ऋषि मुनि सूची 789.17  
 पठार 16.2  
**भृह्माः पुत्र सूची** 766.10  
**भृङ्ग धरण चिह्न**  
 विष्णुः वक्ष चिह्न 768.3  
**भृङ्ग नंदन**  
 परशुराम अवतार 769.28  
**भृङ्गनाथ**  
 परशुराम अवतार 769.28  
**भृङ्गपति**  
 परशुराम अवतार 769.28  
**भृङ्गः पत्नी**  
 दिव्या 783.23  
**भृङ्ग रेखा**  
 विष्णुः वक्ष चिह्न 768.3  
**भृङ्ग लता**  
 विष्णुः वक्ष चिह्न 768.3  
**भृङ्गवार**  
 शुकवार 46.8  
**भृङ्ग शार्दूल**  
 परशुराम अवतार 769.28  
**भृङ्गसुत**  
 शुक ग्रह 7.9  
**भृल**  
 आदत्त 637.6  
 भरा [भरी] 1004.12  
 वाहित 1061.18  
 संवर्धित 979.25

- भूतक**  
वैतनिक 643.40  
सेवक 651.25
- भृति**  
पारिश्रमिक 643 8  
भरण पोषण 650 14  
भार वहन 1061 2  
वहन 1061 1  
वेतन 643.23
- भृतिक**  
वैतनिक 643 40
- भृति देना**  
भरण पोषण करना 650.16
- भृति प्राप्ता**  
भृति प्राप्ता 650 28 ⇨
- भृति भर्ता**  
भृति भर्ता 650.29 ⇨
- भृतिभूति**  
भभूत धारी 106 25
- भृतिभोजी**  
वैतनिक 643 40
- भृति**  
भक्ता 643 35
- भृत्य**  
भृति प्राप्ता 650 28  
वैतनिक 643.40  
सेवक 651 25
- भृत्य [भृत्या]**  
कर्मचारी 652 27
- भृत्य आवास**  
भृत्य आवास 602 16 ⇨
- भृत्य गण**  
कर्मचारी समूह 652 28
- भृत्यता**  
आज्ञा पालकता 347 7  
सेवा 651 1
- भृत्य भरण**  
भरण पोषण 650.14
- भृत्य भर्ता**  
भृति भर्ता 650.29
- भृत्य वर्ग**  
कर्मचारी समूह 652 28
- भृत्य वृत्ति**  
भरण पोषण 650 14
- भृत्या**  
भरण पोषण 650 14
- भूद (प्र)**  
नस्त 243.3
- भूदन (प्र)**  
प्रजनन 243.2
- भूष्ट**  
भुना मांस 206.18
- भूष्ट शब्द**  
अपभ्रंश शब्द 423 5
- भृष्टि**  
भुंजाई 195.21
- भे**  
कमल ककड़ी 189 11
- भेकधी**  
मेटक प्रारंभिक रूप 124.3
- भेगा [भेगी]**  
भेगा [भेगी] 164.11 ⇨
- भेंट**  
उपहार 64C 2  
घड़ाया 750 12  
नव परिधितता 704 8  
पूजा गीत 749.25  
बलि वस्तु 754 2  
भेंट 436.4 ⇨  
भेंटवार्ता 436 5  
मंगल उपहार 798.2  
मिलनी 1059 14  
मिलनी 800 35  
विशेष भेंटवार्ता 445 20
- भेंट इच्छुक**  
भेंट इच्छुक 436.12 ⇨
- भेंट करना**  
उपहार देना 640 10  
बलि करना 754.18  
भेंट करना 436.7 ⇨
- भेंट कर्ता**  
भेंटवार्ता कर्ता 436 13
- भेंट कर्ता**  
संपादक सूची 445 16
- भेंट कर्म**  
बलि कर्म 754 1
- भेंटना**  
उपहार देना 640 10  
बलि करना 754 18  
भेंट करना 436 7  
मिलना 389 5  
सटना 31 6
- भेंटवार्ता**  
भेंटवार्ता 436.5 ⇨  
विशेष भेंटवार्ता 445 20
- भेंटवार्ता करना**  
भेंटवार्ता करना 436.8 ⇨
- भेंटवार्ता कर्ता**  
भेंटवार्ता कर्ता 436 13 ⇨
- भेंडी**  
मिंडी 189 30
- भेक**  
मेटक 124 2  
मेटक शिशु 230 8
- भेकधी**  
मेटक शिशु 230 8
- भेकभोजी**  
सर्प 123.10
- भेज**  
प्रेषण 1054 1
- भेजनहार**  
प्रेषक 1054 16
- भेजना**  
अभ्युदेश करना 437.10  
निकालना 1092 12  
पहुँचाना 1053.9
- भेजना 1054 10 ⇨**  
विदा करना 1058.3
- भेजने वाला**  
प्रेषक 1054.16
- भेजा**  
बुद्धि 301 1  
भेजा 140.10 ⇨  
मस्तिष्क 140.9
- भेजा [भेजी]**  
प्रेषित 1054.14
- भेड़**  
भेड़ 127.24 ⇨
- भेड़घाल**  
भीड़ानुगमन 345 4
- भेड़घाली**  
भीड़ानुगामी 345.9
- भेड़ बकरी**  
दुग्ध पशु 554.17  
भेड़ बकरी 127.8 ⇨
- भेड़ बकरी पालक**  
भेड़ बकरी पालक 555.2 ⇨
- भेड़ बकरी पालन**  
भेड़ बकरी पालन 555.1 ⇨
- भेड़ बकरी: बोली**  
मिमियाहट 298.25
- भेड़ बकरी: शिशु**  
भेड़ बकरी: शिशु 230.17 ⇨
- भेड़ बकरी समूह**  
भेड़ बकरी समूह 690 11 ⇨
- भेड़ शिशु: झबरीला घर्म**  
अस्त्रास्त्रान 582 18
- भेड़ा**  
नर भेड़ 127 25
- भेड़ानुगमन**  
भीड़ानुगमन 345 4
- भेड़ानुगामी**  
भीड़ानुगामी 345 9
- भेड़िया**  
भेड़िया 127.77 ⇨
- भेड़िया धैसान**  
भीड़ानुगमन 345 4
- भेरा:**  
अतवेंधक 271.21  
रहस्योद्घाटक 822 26  
विघ्न कर्ता 1047 29  
विघ्नसक शस्त्र 922.6  
चञ्चल कर्ता 827 25
- भेद**  
असमकक्षता 851 2  
असामान्यता 312.1  
'एकता भंग 699 2  
'काटि 936 1  
नाश 531.1,  
नीति चतुष्टय सूची 819.3  
परस्पर अनिर्वाह 703.4  
पराजय 913.1  
भेद नीति 819.7  
मर्मस्थल 999.6
- भेद तथ्य 820.16**  
रहस्य 823 7  
विघटन 544.1  
विश्लेषण 427.19
- भेदक**  
अंतर्वेधक 271.21  
मंजक 539.15
- भेदकारी**  
एकता भंग कर्ता 699.15  
विश्लेषक 427.33
- भेद ज्ञान**  
द्वैत भाव 752.9  
द्वैतवाद 760.10
- भेदन**  
बरमा कर्म 564.5  
विलाग्नन 1011.1
- भेदना**  
छेदना 271.20
- भेद नीति**  
भेद नीति 819.7 ⇨
- भेदनीय**  
विशेष्य 425.12
- भेद पाना**  
रहस्य जानना 822.15
- भेदपूर्ण**  
इ त्थपूर्ण 823.13
- भेद प्रत्यय**  
द्वैतवाद 760.10
- भेद प्रदर्शक**  
विशेषक 425.13
- भेद प्रदर्शन**  
विशेषण 425.11
- भेद बुद्धि**  
द्वैतवाद 760 10  
विवेक 301.7
- भेदभरा [भेदभरी]**  
रहस्यपूर्ण 823.13
- भेदभाव**  
जातीय भेदभाव 884.30  
पक्षपातपूर्णता 885.2
- भेदभावपूर्ण**  
पक्षपाती 885.35
- भेदभावपूर्णता**  
पक्षपातपूर्णता 885.2
- भेदभावहीन**  
पक्षपातहीन 887.10
- भेदभावहीनता**  
पक्षपातहीनता 887.2  
भेदभावहीनता 884.31 ⇨
- भेद लेना**  
रहस्य जानना 822.15
- भेदबाध**  
द्वैतवाद 760.10
- भेदहीन**  
अद्वैत ईश्वर 764.6  
समान 309.22
- भेदहीनता**  
अद्वैत भाव 752.8

## भेद होना

ईश्वर. अद्वैतता 764.5  
समानता 309.5  
सम्मिश्रितता 1008 13

### भेद होना

असादृश्य होना 310.4

### भेदिया

गुप्तघर 866 12  
रहस्य ज्ञाता 822 23

### भेदियान

गुप्तघरी 866 10

### भेदी

गुप्तघर 866 12  
नाशक 531 8  
बरमा 559.49  
भंजक 539.15  
रहस्य ज्ञाता 822 23  
रहस्योद्घाटक 822.26  
विध्वंसक शस्त्र 922 6

### भेदी का भेदी

प्रतिगुप्तघर 866.16

### भेदुर

इंद्र वज्र 928.8

### भेदू

रहस्य ज्ञाता 822 23

### भेद्य

विरोध्य 425 12  
वेध्य 518.19

### भेद्यता

वेध्यता 518 7

### भेर

नगाड़ा 461 58

### भेरी

ढोल 461 44  
तुरही 461 55  
नगाड़ा 461.58  
मगल वाद्य सूची 796 12  
युद्ध उंका 907 21

### भेरीकार

नगाड़ा वादक 461.59

### भेरी घोष

नांदी घोष 468.20

### भेरुंडक

गीदड़ 127.75

### भेस

अस्थिर 1037.22  
जलयान 1072.1  
नीका 1072 2  
मुरमुरा 200.9

### भेसन

तरण 483.20  
प्रवहन 1041.2

### भेल पूरी

विविध सामग्री: उपमान सूची 689.5

### भेला

टक्कर 1051.16  
बड़ी भेली 977 15  
बेडा 1072.51  
मुठभेड़ 915.2

### भेली

गुड़: भेली 280 15  
पिंड 976.1  
भेली 977.14 ⇨

### भेष

छद्म वेश 589.16  
नाट्य वेश 464 38  
वेश 589.1  
स्वॉग 464.13

### भेषज

औषध 176.1  
धिकित्सा 171 1

### भेषजांग

औषध अनुपान 176.7

### भेषजागार

औषध दुकान 175.9

### भेषज्य

स्वास्थ्यप्रद 161.6

### भेषज्यता

स्वास्थ्यप्रदता 161.4

### भेस

छद्म वेश 589.16  
नाट्य वेश 464.38  
स्वॉग 464 13

### भेस धरना

छद्म वेश धरना 589 23

### भेसिया

छद्म वेशी 589.17

### भेसी

स्वॉगी 464.14

### भेस

भेस 127 19 ⇨

### भेस: कटड़ा

भेस: कटड़ा 230.18 ⇨

### भेस: कटड़ी

भेस: कटड़ी 230.19 ⇨

### भेसा

नर भेस 127.20

### भेसा गाड़ी

भेसा गाड़ी 1071 45 ⇨

### भेसा ठेला

भेसा गाड़ी 1071 45

### भेन

बहन 723.6

### भेना

बहन 723 6

### भेनी

बहन 723 6

### भेया

भाई 723.4

### भेया दूज

भाई दूज 57 17

### भेरव

गीदड़ 127.75  
भयानक 395.25  
भयानक रस 455.15  
भेरव 746.12 ⇨  
भेरव 767.29 ⇨

### भेरव गण 767 32

राग रागिनी सूची 457 24  
शिय 767 1

शिव: अशांत रूप 767 23

बड़गाँव सूची 457 22

### भेरव गण

भेरव गण 767.32 ⇨

### भेरव गण सूची

भेरव गण सूची 767.33 ⇨

### भेरव वाहन

कुत्ता 127 71

### भेरवी

चामुंडा 776 5

पार्वती 776.9

भेरवी 776.13 ⇨

### भेरवी चक्र

मद्यपान उत्सव 209.22

मद्यपान गोष्ठी 209 23

### भेरवी सूची

भेरवी सूची 776.14 ⇨

### भेरवेश

शिव 767.1

### भेरु

भेरव 767.29

भेरव 746 12

भेरव गण 767.32

### भेरो

भेरव 746 12

भेरव 767 29

भेरव गण 767.32

### भेरो जी

भेरव 746 12

### भेष्की

रुक्मिणी 771.84

### भोक

घोष 270.5

### भोकना

घुसेड़ना 1051.29

घोंपना 270 14

### भोका [भोकी]

कुडील 155 5

कुरूप 156.4

### भोकापन

कुडीलता 155 3

### भोदूपना

मूर्खता 302 1

### भोपा

भोपू 300 7

### भोपू

भोपू 300 7

### भोभो

भोक 298.24

### भोक्तव्य

भोग्य 363.14

### भोक्ता

अंतरिंद्रिय 268 4

आधिपत्यधारी 899.9

आवास आधिपत्यधारी 622.9

उपभोक्ता 524.16

प्रतिफल भोगी 510 13

भक्षक 181.53

भोगी 363.15

विष्णु 768.1

सहन कर्ता 872.19

स्वामी 621.2

### भोग

उपभोग 524.1

घड़ावा 750 12

पूर्व कर्मफल 260 9

भोग 363.1 ⇨

भोग 750.15 ⇨

भोग्य वस्तु 363.3

भोजन कर्म 181 4

विलास 363.6

ससार भोग 363 5

सर्प कुंडली 973 9

सर्प फण 140 3

भोग अभाव

अभोग 364 1

### भोगकक्ष

शयन कक्ष 614 21

### भोग करना

भोगना 363 9

### भोग काल

आयु 229 1

ग्रहदशा 261.21

### भोग त्याग

भोग त्याग 364.3 ⇨

### भोग त्यागी

भोग त्यागी 364 12 ⇨

### भोग देह

सूक्ष्म शरीर 139 2

### भोगधर

सर्प 123.10

### भोगन

उपभोगन 524.2

### भोगना

उपभोग करना 524.10

प्रतिफल भोगना 510.8

प्रहार सहना 920.12

भोगना 363.9 ⇨

विलास करना 363 12

सहन करना 872 9

स्वाद लेना 275 11

### भोगपति

प्रातः प्रशासक 882 31

### भोग पदार्थ

भोग्य वस्तु 363.3

### भोग पाल

अश्वयान चालक 1079.5

### भोग पूर्ति

तृप्ति 361.5

### भोगप्रियता

विलासप्रियता 363.7

### भोग प्रेम

विलासप्रियता 363.7

- भोग प्रेमी  
विलासी 363.20
- भोगलिप्सु  
भोगलिप्सु 363.17
- भोग लिप्सा  
भोग लिप्सा 363.4 ⇨
- भोग लिप्सा न करना  
इंद्रिय निग्रह करना 364.7
- भोग लिप्साहीन  
इंद्रिय निग्रही 364.13
- भोग लिप्सा होना  
भोग लिप्सा होना 363.10 ⇨
- भोगलिप्सु  
भोगलिप्सु 363.17 ⇨
- भोगस्त्री  
आभूषण पेष 1016.21
- भोगवती  
नाग राजधानी 778.16  
नाग स्त्री 778.13  
मादा सर्प 123.11
- भोगवाद्  
भोगवाद् 760.21 ⇨
- भोग विलास  
विलास 363.6
- भोग विलास करना  
विलास करना 363.12
- भोगहीनता  
अभोग 364.1
- भोगा [भोगी]  
उच्छिष्ट 198.11  
उपभुक्त 524.14  
भुक्त 363.13  
सहा [सही] 872.17
- भोगानुभवी  
भुक्तभोगी 363.16
- भोगानुभूति अतीत  
अनासक्त 366.5
- भोगानुभूति अतीतता  
अनासक्ति 366.1
- भोगिनी  
अप्रधान पत्नी 803.8  
नाग स्त्री 778.13  
मादा सर्प 123.11  
व्यभिचारिणी 806.11
- भोगीन्द्र  
वासुकि नाग 778.21
- भोगी  
उपभोक्ता 524.16  
कामुक 237.14  
प्रतिफल भोगी 510.13  
फणधर सर्प 123.13  
भोगी 363.15 ⇨  
व्यभिचारी 806.10
- भोगी [भोगिनी]  
आनन्दशील 382.19
- भोगीभुज  
नेबला 127.69
- भोगी बल्लभ  
चंदन 274.20
- भोगी विलासी  
विलासी 363.20
- भोगेच्छुक  
भोगलिप्सु 363.17
- भोगोन्माद  
कामोन्माद 353.15
- भोग्य  
आहार्य 197.22  
उपभोग्य 524.15  
भोग्य 363.14 ⇨
- भोग्यता  
आहार्यता 197.12
- भोग्य वस्तु  
भोग्य वस्तु 363.3 ⇨
- भोज  
भोज 183.1 ⇨  
सहभोज 183.4  
भोज (दे.)  
सत्कार 184.1
- भोजक  
खिलाने वाला 183.41  
भक्षक 181.53
- भोजकत्व क्रिया  
कलानुभूति 399.12
- भोज के लिए बुलाना  
भोज के लिए बुलाना 183.34 ⇨
- भोजदाता  
भोजदाता 183.14 ⇨
- भोज देना  
भोज देना 183.33
- भोजन  
आहार पदार्थ 186.1  
भक्षण 181.10  
भोजन कर्म 181.4  
वर्जित द्रव्य सूची 463.28
- भोजन (दे.)  
अंतर्ग्रहण 1002.5
- भोजन अक्षर  
आहार आचार 198.1
- भोजन अवकाश  
भोजन अवकाश 494.5 ⇨
- भोजन: इच्छा  
बुधा 180.1
- भोजन कक्ष  
भोजन कक्ष 194.9 ⇨
- भोजन: कर्मरा  
भोजन कक्ष 194.9
- भोजन करना  
मुख भित्ता 180.11  
भोजन करना 181.32 ⇨
- भोजन कराना  
खिलाना 183.38
- भोजन कर्ता  
भक्षक 181.53
- भोजन कर्म  
बुधा शमन 180.4
- भोजन कर्म 181.4 ⇨
- भोजन काल  
आहार काल 199.1
- भोजन गंध  
आहार सुवास 281.1
- भोजनदार  
भोज भृतिक 643.11
- भोजनदारी  
भोज भृति 643.10
- भोजनन  
खिलाई 183.22
- भोजन पटल  
भोजन पटल 194.10 ⇨
- भोजन पान  
खान पान 181.1
- भोजन प्रदाता  
भोजन प्रदाता 183.42 ⇨
- भोजन प्रदान  
आहार अर्पण 183.23
- भोजनप्रिय  
भोजन प्रेमी 181.49 ⇨
- भोजनप्रियता  
भोजन प्रेम 181.2
- भोजन प्रेम  
भोजन प्रेम 181.2 ⇨
- भोजन प्रेमी  
भोजन प्रेमी 181.49 ⇨
- भोजन बरतन  
भोजन बरतन 680.17 ⇨
- भोजन बौटना  
आहार वितरण करना 183.37
- भोजन भट्ट  
अत्याहारी 182.15  
भोजन प्रेमी 181.49
- भोजन भट्टता  
भोजन प्रेम 181.2
- भोजन भत्ता  
आहार भत्ता 643.37
- भोजन मात्रा  
आहार मात्रा 182.1
- भोजन मेज़  
राष्ट्रीय टेबल 595.35
- भोजन यान  
डाइनिंग कार 1076.5
- भोजन विक्रेता  
आहार विक्रेता 194.11
- भोजन वीर  
अत्याहारी 182.15
- भोजन शाला  
भोजनालय 194.1
- रसोई घर 195.1
- भोजन शैली  
पाक शैली 195.5
- भोजन संकोच  
भोजन संकोच 182.3 ⇨
- भोजन संकोची  
भोजन संकोची 182.14 ⇨
- भोजन सूची  
मैन्सू 199.8
- भोजनहीन  
अप्राप्तभोजन 181.52
- भोजनाहार  
आहार आचार 198.1
- भोजनार्थी  
बुधित 180.15
- भोजनालय  
भोजन कक्ष 194.9  
भोजनालय 194.1 ⇨  
रेस्तोरी 194.8
- भोजनावकाश  
भोजन अवकाश 494.5
- भोजनिका  
मैन्सू 199.8
- भोजन निमंत्रण  
भोजन निमंत्रण 183.13 ⇨
- भोजनेच्छुक  
बुधित 180.15
- भोजपति  
कंस 771.46
- भोजपत्र  
भोजपत्र 415.8 ⇨  
भोजपत्र लेख 77.9
- भोजपत्र लेख  
भोजपत्र लेख 77.9 ⇨
- भोजपुरी  
भोजपुरी 421.14 ⇨
- भोज भृति  
भोज भृति 643.10 ⇨
- भोज भृतिक  
भोज भृतिक 643.11 ⇨
- भोजयिता  
खिलाने वाला 183.41  
भक्षक 181.53  
भोजदाता 183.14
- भोज विद्या  
तिलिस्म 474.13
- भोज सामग्री  
भोज सामग्री 183.18 ⇨
- भोजाहार  
आहार आचार 198.1
- भोजातिथि  
भोजातिथि 183.17 ⇨
- भोजाधिकार  
सहभोज अधिकार 183.3
- भोजालय  
भोजनालय 194.1
- भोजित  
प्राप्तभोजन 181.51  
भक्षित 181.62
- भोजितता:  
खार 181.69
- भोजी  
भक्षक 181.53  
भोजातिथि 183.17

## भोजी [भोजिनी]

भोजी [भोजिनी]

भोगी 363 15

भोज्य

आहार्य 197 22

भोज्यता

आहार्यता 197 12

भोज्य पदार्थ

आहार पदार्थ 186 1

भोज्यम

चतुर्विध आहार सूची 186.3

भोज्यम 186 6 ⇨

भोट

कुली 1061 4

चतुर्भुज पाषाण पटल 990 20

तिब्बत 27.7

तिब्बती 27 25

भूटान 27 13

भूटानी 27 28

भोटान्ग

भूटान 27 13

भोटान्गीय

भूटानी 27 28

भोटिया

कुली 1061 4

तिब्बती 27 25

भूटानी 27 28

भोटिया बादाम

आलू बुखारा 191 3

भोथरा [भोथरी]

कुठित 270 24

भोथरा करना

कुठित करना 270 16

भोथरापन

कुठितता 270 10

भोपाल

मध्य प्रदेश राजधानी 28 57

भोमीरा

मूंगा 97 1

भोर

प्रभात काल 47 4

भोर का तारा

प्रातःकालीन शुक्रे 7 10

लूरीफर 785 4

भोर का दिया

प्रातः दीपक 285 15

भोला

शिव 767 1

भोला [भोली]

अनुभवहीन सरल 817 9

मूर्ख 302 7

व्यवहार अकुशल 829 9

सरल 817 8

सहज तुष्ट 374 21

सहज विश्वासी 340 16

भोलानाथ

शिव 767 1

भोलापन

अनुभवहीन सरलता 817 3

1376

पापहीनता 813 1

सहज विश्वासशीलता 340 4

भोला भाला [भोली भाली]

सरल 817 8

भोसले

रज [रनी] पलाम (मरत)सूत्र 882 11

भौ

भू 141 11

भौक

भौक 298 24 ⇨

भौघक

आश्चर्यित 379 8

भौघक होना

आश्चर्य होना 379 5

भौघकका [भौघककी]

आश्चर्यित 379 8

भौघककापन

आश्चर्यितता 379.2

भौ घड़ाना

घमकाना 373 26

भौडा [भौडी]

कलाहीन 403 4

भौडापन

कलाहीनता 403 1

भौडापन

भदेसपन 403 3

भौडा प्थीडा]

सुरुचिहीन 401 17

भौपा

होर्न 461 92

भौपू

खतरा घटी 461 31

भौपू

भौपू 300 7 ⇨

होर्न 461 92

भौभौ

भौक 298 24

भौरा

घिरनी 1077 39

पहिया नाभि 1077 4

भौरा

भमर 122.33

भौरा

लट्टू 480 15

भौराला [भौरीली]

धुंधराला 137 25

भौरी

कीट सूची 122 12

परिक्रमा 1033 3

रोम यक 135 8

सौदागर फेरी 1083 17

भौह

भू 141 11

भौह चकाना

भू भंगिमा करना 284 38

भौह छलाना

भू भंगिमा करना 284 38

भौह मटकाना

भू भंगिमा करना 284.38

भौगोलिक

पृथ्वीय 9.21

भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक भूभाग

क्षेत्र 34 1

भौघक

आश्चर्यित 379 8

भौघकका [भौघककी]

आश्चर्यित 379.8

भौज

भाभी 724 26

भौजाई

भाभी 724 26

भौजी

भाभी 724 26

भौतिक

इहलौकिक 258 13

जड़ 78 23

तत्त्वीय 78 24

पद्यभौतिक 78 25

शारीरिक 139 11

भौतिक चिकित्सा

व्यायाम चिकित्सा 172 19

भौतिक जगत से परे ज्ञान असंभव है

अज्ञेयवाद 760 6

भौतिक जगत से परे ज्ञान संभव है

ज्ञेयवाद 760 7

भौतिकता

जड़ता 78 4

वास्तविकता 820 13

भौतिकतायाद

नास्तिकतायाद 760 14

भौतिकतायाद 760 22 ⇨

भौतिक पदार्थ

जड़ पदार्थ 78.5

भौतिक शरीर

शरीर 139 1

भौतिक संकट

भौतिक संकट 909 3 ⇨

भौतिक संकट आना

भौतिक संकट आना 909 14 ⇨

भौम

पृथ्वीय 9 21

भूगर्भस्थ 9 22

मगल ग्रह 7 7

भौमन

विश्वकर्मा 773 44

भौमवार

मगलवार 46 5

भौमाग्नि

वैद्यक अग्नि सूची 106 7

भौमिक

जमींदार 553 14

धलीय 25 30

देशीय 34 17

भौमिकी

भूविज्ञान 9 4

भौमिकीयिद

भूविज्ञानी 9.5

भौमी

सीता 770 66

भंश

नाश 531 1

ह्रास 531 3

भंशान

प्रवचन 635 9

भंशित

प्रवचित 635 25

भंशोद्धार

उबराई 1030 6

भंशोद्धारक

उबारने वाला 1030 27

भंशोद्दत्त

उबारा [उबारी] 1030.26

भकुटी

भू 141 11

भ्रम

एक चक्रावृत्ति 1033 13

गलत फहमी 341 4

दुविधा 501 1

भूल 498 3

भ्रम 342 1 ⇨

मार्ग भ्रम 1099 1

रोग भ्रम 353 1

लक्ष्य भ्रम 931.13

विषय वाराना रूपी अज्ञान 761 1

सम्मोह 367 1

सादृश्य आभास 309 4

भ्रमकारी

भ्रमक 342 11

भ्रमग्रस्त

भ्रमित 342 10

भ्रमजाल

भ्रमक मार्ग 1063 5

भ्रमण

आमोद यात्रा 1085 6

गश्त 1083 16

परिधि चक्रण 1033 2

पर्यटन 1090 6

मंडराव 1033 12

यात्रा 1087 1

भ्रमण करना

गश्त लगाना 1083 23

भ्रमण योजना

यात्रा मार्ग 1087 26

भ्रमणशील

दिशाहीन 1099 11

पर्यटनशील 1090 45

भ्रमणी

चरखी झूला 1034 10

भ्रम दर्शन

भ्रम दर्शन 342 3 ⇨

माया दर्शन 342 4

भ्रम दूर होना

भ्रम दूर होना 340.11 ⇨



**भ्रम नाशक**  
भ्रम नाशक 340.22 ⇨  
**भ्रमर**  
उद्धव 771.44  
भ्रमर 122.33 ⇨  
**भ्रमरक**  
टरबाइन 1078 16  
**भ्रमरज**  
मधु 280 9  
मोम 110.22  
**भ्रमर वासिनी**  
विध्यवासिनी 774 85  
**भ्रमरानंद**  
मीलसिरी 13 20  
**भ्रमरिका**  
मंडराव 1033 12  
**भ्रमरी**  
पार्वती 776 9  
रोम चक्र 135 8  
**भ्रमयश**  
विचारहीनत 330 30  
**भ्रम विश्वास**  
भ्रम विश्वास 340.3 ⇨  
**भ्रम विश्वास (दे.)**  
अवैज्ञानिकता 307 3  
**भ्रम विश्वास पूर्ण**  
विज्ञान विरुद्ध 307 14  
**भ्रम विश्वासी**  
भ्रम विश्वासी 340.15 ⇨  
**भ्रमशील**  
परिक्रमणशील 1033 20  
**भ्रमहीन**  
अविचल 500 15  
दिशानुगामी 1098 24  
भ्रमहीन 340.21 ⇨  
मार्गानुगामी 1098.23  
लक्ष्यानुगामी 931 22  
**भ्रमहीनता**  
दिशानुगमन 1098 7  
दृढमतता 343 2  
भ्रमहीनता 340.8 ⇨  
लक्ष्यानुगमन 931.11  
**भ्रम होना**  
भ्रमित होना 342 9  
**भ्रमायण**  
परिक्रामण 1033 11  
**भ्रमाशा**  
मिथ्या आशा 375.4  
**भ्रमि**  
एक चक्रावृत्ति 1033 13  
चाक 559 15  
**भ्रमित**  
आश्चर्यित 379.8  
चक्रित 1033.17  
भ्रमित 342.10 ⇨  
लक्ष्य भ्रमित 931.24  
**भ्रमित होना**  
भ्रमित होना 342.9 ⇨

**भ्रमी**  
आवृत्तिशील 71 9  
परिक्रमणशील 1033 20  
भ्रमित 342 10  
**भ्रमोत्पादक**  
भामक 342 11  
**भ्रष्ट**  
अविशुद्ध 219 8  
उच्छिष्ट 198 11  
खोटा [खोटी] 98 13  
जाति निर्वासित 870 28  
दुरधरित्र 811 5  
नष्ट 531 7  
पापी 812 12  
लक्ष्य च्युत 931 23  
विकृत 536 8  
विस्थापित 1036 13  
हस्त 531 11  
**भ्रष्ट [भ्रष्टा]**  
धर्मच्युत 742 32  
लाछित 843 23  
**भ्रष्ट तर्क**  
कुतर्क 325 3  
**भ्रष्टता**  
अविशुद्धता 219 3  
दुरधरित्रता 811 1  
**भ्रष्टधी**  
भ्रष्टधी 302.10 ⇨  
**भ्रष्टबुद्धि**  
भ्रष्टधी 302 10  
**भ्रष्टमार्ग**  
मार्गच्युत 1099.8  
**भ्रष्टश्री**  
दुर्भाग्यशाली 260 34  
**भ्रष्टस्मृति**  
स्मृतिनष्ट 357 10  
**भ्रष्ट होना**  
दुरधरित्र होना 811 4  
**भ्रष्टा**  
दुरधरित्रा 811 6  
पापिनी 812.13  
व्यभिचारिणी 806 11  
**भ्रष्टाचार**  
घोटाला 865 8  
छल 827 7  
दुरधरित्रता 811 1  
बेईमानी 816.2  
**भ्रष्टाचारी**  
घोटालेबाज़ 865 24  
दुरधरित्र 811 5  
**भ्रांत**  
आश्चर्यित 379.8  
चक्रित 1033 17  
भ्रमित 342.10  
लक्ष्य भ्रमित 931 24  
**भ्रांत धारणा**  
गलत फ्रहमी 341 4

**भ्रांति**  
अवास्तविकता 821.9  
असावधानी 498 1  
अस्थिरचित्तता 355 3  
एक चक्रावृत्ति 1033 13  
गलत फ्रहमी 341 4  
दुबिधा 501.1  
भूल 498.3  
भ्रम 342.1  
भ्रम दर्शन 342.3  
मार्ग भ्रम 1099 1  
विषय वासना रूपी अज्ञान 761.2  
सदेह 341 3  
**भ्रांतिकारी**  
भामक 342.11  
**भ्रांतिग्रस्त**  
भ्रमित 342 10  
**भ्रांतिहर**  
भ्रम नाशक 340.22  
**भ्रांतिहीन**  
दृढमतपूर्ण 343 13  
भ्रमहीन 340 21  
स्पष्ट 822 20  
**भ्रांतिहीनता**  
भ्रमहीनता 340 8  
स्पष्टता 822 1  
**भ्रांति होना**  
भ्रमित होना 342 9  
**भ्राजन**  
आलोकन 285.2  
**भ्राजमान**  
शोभायुक्त 226 11  
**भ्राजिष्णु**  
भव्यदृश्यतापूर्ण 402.4  
शोभायुक्त 226 11  
**भ्राजिष्णुता**  
भव्य दृश्यता 402 2  
**भ्राता**  
भाई 723 4  
**भ्रातापुत्र**  
भतीजा 722 24  
**भ्राता बहन**  
भाई बहन 723.2  
**भ्राता भाव**  
भ्रातृत्व 723 3  
**भ्राता श्वशुर**  
जेठ 724 30  
**भ्रातीय**  
भतीजी 722.26  
**भ्रातृ**  
भाई 723 4  
**भ्रातृजा**  
भतीजी 722.26  
**भ्रातृता**  
भ्रातृत्व 723.3  
**भ्रातृत्व**  
भ्रातृत्व 723.3 ⇨  
स्वजन भावना 725.2

**भ्रातृ भाव**  
भ्रातृत्व 723.3  
**भ्रातृयुद्ध**  
कुटुंब युद्ध 905.15  
**भ्रात्रीय**  
भतीजा 722 24  
**भ्रात्रेय**  
भतीजा 722.24  
**भ्रामक**  
उकसाने वाला 499.13  
चक्रमेबाज़ 819.18  
दुबिधाजनक 501 9  
भ्रामक 342 11 ⇨  
**भ्रामक मार्ग**  
भ्रामक मार्ग 1063.5 ⇨  
**भ्रामण**  
परिक्रामण 1033.11  
**भ्रामरी**  
दुर्गा 776 7  
**भ्रामी**  
परिक्रमणशील 1033 20  
**भ्राष्ट्र**  
भद्रभूजा कड़ाह 682 6  
**भ्रू**  
भ्रू 141 11 ⇨  
**भ्रूकरा**  
स्त्री पात्र पुरुष अभिनेता 464 10  
**भ्रुकुटी**  
भ्रू 141 11  
**भ्रूण**  
आरंभिक अवस्था सूची 994.23  
भ्रूण 241.11 ⇨  
**भ्रूणघाती [भ्रूणघातिनी]**  
गर्भघाती [गर्भघातिनी] 241.18  
**भ्रूणघ्न**  
गर्भघाती [गर्भघातिनी] 241.18  
**भ्रूण हत्या**  
गर्भघात 241 4  
**भ्रूणहा**  
गर्भघाती [गर्भघातिनी] 241.18  
**भ्रू भंग**  
त्योरी 284 10  
भ्रू 141.11  
**भ्रू भंगिमा**  
त्योरी 284.10  
भ्रू भंगिमा 284.9 ⇨  
**भ्रू भंगिमा करना**  
भ्रू भंगिमा करना 284.38 ⇨  
**भ्रूमध्य**  
भ्रूमध्य 141.12 ⇨  
**भ्रू विलास**  
भ्रू भंगिमा 284.9

म

मंकी आइलैंड (बी)  
कंपास घर 1073.25

## मंग

### मंग

सीमंत 223 18

मैंगला [मैंगली]

मिश्रक 642.5

मैंगनी

ऋण 633.7

वाग्दान 800.47

मंगल

आनंद मंगल 382.3

इच्छा पूर्ति 361.1

कल्याण 710.2

कल्याणकारी 710.21

नवग्रह सूची 261.14

प्रसन्नता 381.1

मंगल ग्रह 7.7

मंगलवार 46.5

विष्णु 768.1

शुभ शकुन 262.2

सीभाग्य 260.17

सीर मंडल: ग्रह सूची 7.4

मंगल अमंगल

कल्याण अकल्याण 710.1

मंगल उपहार

मंगल उपहार 796.2 ⇌

मंगलकर

कल्याणकारी 710.21

मंगल करण

मंगलाचरण 796.14

मंगल कलश

मंगल कलश 796.5 ⇌

मंगलकाम

कल्याण कामी 710.23

मंगल कामना

कल्याण कामना 710.4

बधाई 841.22

मंगल कामना करना

कल्याण कामना करना 710.15

मंगलकारक

कल्याणकारी 710.21

मंगलकारिता

कल्याणकारिता 710.3

मंगल कार्य

मंगलोत्सव 796.1

मंगल काल

मंगल काल 796.3 ⇌

मंगल गान

मंगल गीत 796.15

मंगल गायक

मंगल गायक 796.16 ⇌

मंगल गीत

मंगल गीत 796.15 ⇌

मंगल ग्रह

मंगल ग्रह 7.7 ⇌

मंगल घट

मंगल कलश 796.5

विवाह कलश 802.21

मंगल घोष

नांदी घोष 468.20

मंगल विषय

मंगल दिवस 796.4 ⇌

मंगल देवता

इष्ट देवता 772.23

मंगल द्वार

मुख्य द्वार 608.7

मंगल धातु

मैंगनीज 94.12

मंगल ध्वनि

मंगल ध्वनि 796.8 ⇌

मंगल ध्वनि कर्ता

मंगल ध्वनि कर्ता 796.9 ⇌

मंगल परिधान

मंगल परिधान 796.6 ⇌

मंगल पाठ

नांदी पाठ 468.21

मंगल पाठक

प्ररांसा गायक 841.11

मंगल ध्वनि कर्ता 796.9

मंगलपूर्ण

कल्याणपूर्ण 710.20

मंगल पौत

मंगल यान 1075.10

मंगल बधाई

बधाई गीत 796.17

मंगल बधाई 841.23 ⇌

मंगल बधावा

मंगल बधाई 841.23

मंगल बेला

मंगल काल 796.3

मंगल भोग

विलास 363.6

मंगल मालिका

मंगल गीत 796.15

मंगल यान

मंगल यान 1075.10 ⇌

मंगल वस्त्र

मंगल परिधान 796.6

विवाह वस्त्र 802.22

मंगल वाद्य

मंगल वाद्य 796.11 ⇌

मंगल वाद्य ध्वनि

मंगल वाद्य ध्वनि 796.10 ⇌

मंगल वाद्य सूची

मंगल वाद्य सूची 796.12 ⇌

मंगलवार

मंगलवार 46.5 ⇌

मंगल शब्द

मंगल ध्वनि 796.8

मंगल संगीत

मंगल संगीत 796.7 ⇌

मंगल सूचक

कल्याण सूचक 710.22

मंगल सूत्र

मंगल सूत्र 228.28 ⇌

सुहाग चिह्न सूची 803.15

मंगल होना

कल्याण होना 710.13

विवाह कार्य होना 799.41

मंगला

दुर्गा 776.7

पतिव्रता 805.6

पार्वती 776.9

लक्ष्मी 775.1

मंगलाकांक्षी

कल्याण कामी 710.23

मंगला गौरी

पार्वती 776.9

मंगलाचरण

नाट्य आरंभ सूची 468.24

भूमिका 447.8

मंगलाचरण 465.7 ⇌

मंगलाचरण 796.14 ⇌

मंगलाचरण पाठ

नांदी पाठ 468.21

मंगलाधार

मंगलारंभ गीत 796.13

मंगलोत्सव 796.1

विवाह उत्सव 799.2

शुभ आरंभ कृत्य सूची 521.3

मंगला मुञ्जी

वैश्या 807.5

मंगलारंभ

गणेश 773.22

मंगलारंभ गीत

मंगलारंभ गीत 796.13 ⇌

मंगलालय

ईश्वर 764.1

मंगलावह

कल्याणकारी 710.21

मंगलायास

देव मंदिर 745.30

मंगलेश

शिव 767.1

मंगलोत्सव

मंगलोत्सव 796.1 ⇌

मंगल्य

नारियल 13.11

पीपल 13.14

बिल्व 190.27

सिंदूर 225.18

स्वर्ण 95.4

मंगल्य

दूध घास 11.10

हलदी 281.38

मैंगवाई

आयाचन 1055.5

मैंगयाना

आयाचित करना 1055.8

वापस मैंगाना 1055.9

मैंगबाने वाला

आयाचक 1055.17

मैंगवाया [मैंगवाई]

आयाचित 1055.16

मंगलार

मार्गशीर्ष 43.15

मैंगाना

वाल मैंगाना 660.16

मैंगाने वाला

आयाचक 1055.17

मैंगवाया [मैंगवाई]

आयाचित 1055.16

मैंगेतर

वाग्दत्ता [वाग्दत्ता] 799.63

मैंगोड़ी

मूंग बड़ी 192.16

मंगोल वंशी जातियाँ

पीली जाति 730.10

मंघ

कृषि रक्षण मघान 550.4

खाट 594.6

नीकाग्र 1073.23

पाङ 599.30

भाषण मघ 695.13

मंघ 695.12 ⇌

रंगमंघ 471.14

राजनीतिक दल 885.15

स्तंभालिद 610.9

मंघक

आखेट मघ 252.23

मघ 695.12

मंघ कर्मी

मंघ कर्मी 468.9 ⇌

मंघ कला

मंघ कला 397.10 ⇌

मंघ कला सूची

मंघ कला सूची 397.11 ⇌

मंघ कवि

मंघ कवि 448.17 ⇌

मंघ कार्यक्रम

मंघ कार्यक्रम 468.2 ⇌

मंघन

मघन 468.1 ⇌

मंघन आरंभ: कृत्य

पूर्वग 468.17

मंघन करना

मंघित करना 468.32

मंघ नाटक

मंघ नाटक 463.1 ⇌

मंघ निर्देशक

मंघ निर्देशक 468.11 ⇌

मंघनीय

मंघनीय 468.35 ⇌

मंघनीय (नाटक)

मंघनीय 468.35

मंघ पट

यदनिका 606.1

मंघ पार्श्व

मंघ पार्श्व 471.17 ⇌

मंघ पृष्ठ

मंघ पृष्ठ 471.16 ⇌

मंघ प्रवेश

मंघ प्रवेश 468.26 ⇌

मंच प्रस्तुति शो 468.5	मंजरी 115.10 ⇨ मोती 97.2 लता 111.17	बोधिसत्व सूची 793.16 मधुर ध्वनिक 294.27 मिष्टभाषी 431.8	मैंकाई 592.7 वेष्टन 592.5 शृंगार कर्म 222.9 शोभाच्यन 226.2
मंच प्रस्तुति व्यवसाय मनोरंजन व्यवसाय 470.1	मंजरी (दे.) शाखा पुष्य समूह 115.8	मंजुघोषा अप्सरा सूची 782.3	मंडन (दे.) अनुसमर्थन 329.3
मंच प्रस्तुतीकरण मंचन 468.1	मंजरीक अशोक 13.4 तुलसी 13.9 बैत 923.8	मंजुनाशी दुर्गा 776.7	मंडन करना मंडन करना 326.8 ⇨
मंच प्रस्थान मघ प्रस्थान 468.27 ⇨	मंज खाट 594.6	मंजुप्राण ब्रह्मा 786.1	मंडन कर्ता मंडन कर्ता 326.17 ⇨
मंच भय मंच भय 468.28 ⇨	मैजा [मैजी] अति अनुभवी 303.18 अनुभवी 303.17 परिष्कृत 537.9 प्रदीप 303.22 मार्जित 218.38	मंजुभाषिणी मिष्टभाषिणी 431.9	मंडन शिक्ष मंडन कर्ता 326.17
मंच वेश नाट्य वेश 464.38	मैजा [मैजी] अति अनुभवी 303.18 अनुभवी 303.17 परिष्कृत 537.9 प्रदीप 303.22 मार्जित 218.38	मंजुभाषी मिष्टभाषी 431.8	मंडना शोभावित्त करना 226.8
मंच संघालक मंच संघालक 468.10 ⇨	मैजाई बरतन मैंजाई 218.9 मार्जन 218.8	मंजुल कूप उत्स्रोत 21.3 वृक्ष कुंज 12.18 श्रुतिप्रिय 294.25 सुंदर 157.7	मंडप मंडप 600.8 ⇨ विवाह मंडप 802.29 वृक्ष कुंज 12.18
मंच सज्जा मघ सज्जा 471.18 ⇨	मैजाई करना मार्जित करना 218.25	मंजुलता सुंदरता 157.1	मंडपक चैदोवा 600.18
मंच समूह रचना पिंडी बंध 462.20	मंजिल अस्थायी स्थान 618.15 गंतव्य 1100.1 गंतव्य स्थान 1100.2 नक्षत्र 4.5 भवन 602.7 मंजिल 612.1 ⇨	मंजुयादिनी मिष्टभाषिणी 431.9	मंडपन आमंडपन 600.1
मंच सामग्री मंच सामग्री 471.19 ⇨	मंजिल तक पहुँचना गंतव्य प्राप्त होना 100.5	मंजुश्री बोधिसत्व सूची 793.16	मंडप निर्माण आमंडपन 600.1
मंच स्वर: तीव्रता स्वर अलंकार 465.10	मंजिल पाना गंतव्य प्राप्त होना 1100.5	मंजुस्वन मधुर ध्वनिक 294.27	मंडप पूजन मंडप पूजन 800.32 ⇨
मंचाग्र मंचाग्र 471.15 ⇨	मंजिले मारुतूच गंतव्य स्थान 1100.2	मंजूर पारित 329.27 सहमति प्राप्त 337.20 स्वीकृत 337.16	मंड पीठिका चक्र: आधा भाग 960.2
मंचायोग्य अमंचनीय 468.36	मंजिल तक पहुँचना गंतव्य प्राप्त होना 100.5	मंजूरशुवा सहमति प्राप्त 337.20 स्वीकृत 337.16	मंडराना ग्लाइडिंग करना 1081.46 मंडराना 1033.16 ⇨
मंधिका खाट 594.6	मंजिल मिलना गंतव्य प्राप्त होना 1100.5	मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	मंडराव ग्लाइडिंग 1081.21 मंडराव 1033.12 ⇨
मंधित मंधित 468.34 ⇨	मंजिले मारुतूच गंतव्य स्थान 1100.2	मंजूबा डिबिया 676.4 पिटारा 677.12 पिटारी 677.13 रत्न मंजूषा 676.5 संदूकधी 676.18	मंडल अध्याय 447.2 करदाता राजा 882.7 क्षेत्र 34.1 जनपद समूह 34.7 दल 691.1 नगर खंड 619.5 पकोस 31.3 परगना 34.8 परिधि 972.4 प्रदेश 34.9 मंडल 464.24 ⇨
मंधित करना मंधित करना 468.32 ⇨	मंजी छोटी खाट 594.8 मंजरी 115.10	मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	मंडली 691.5 वर्तुल पिंड 976.4 विभाग 937.3 वृत्त (चक्र) 972.1 संस्था 692.1 समिति 692.20 समूह 690.1
मंधीकरण मघन 468.1	मंजीर मंधन: स्तंभ 554.18	मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	मंडल कवि मंच कवि 448.17
मंधीकरण: सफलता नाट्य सिद्धि 468.29	मंजीरा मंजीरा 461.70 ⇨	मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	मंडलान मंडराव 1033.12
मंधीय नाटकीय 466.19	मंजीरा वादक मंजीरा वादक 461.71 ⇨	मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	
मंधीय अलंकार पात्र आभूषण 464.37	मंजु सुंदर 157.7	मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	
मंधीय कानाफूसी जनातिक वचन 465.3	मंजुकेरी सुंदर केश वाला 137.24	मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	
मंजन दत मंजन 221.5	मंजुगमना मादा हंस 126.77	मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	
मंजर मनोरंजक दृश्य 312.7	मंजुगर्त नेपाल 27.9	मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	
मंजरकराी दृश्य वर्णन 449.5	मंजुघोष क्रासता 126.52	मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	
मंजरित पुष्पित 118.14		मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	
मंजरित होना पुष्पित होना 118.8		मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	
मंजरी अनाज: बाल 113.8 तुलसी 13.9 बीज समूह 112.9		मंजूरी पारण 329.6 स्वीकृति 337.1	

## मंडल पति

<b>मंडल पति</b>		<b>मंडित</b>		<b>मंतर</b>		<b>मंत्रद</b>	
जनपद समूह प्रसासक 891.6		अनुसमर्थित 329.22		मंत्र 741.1		गुरु 323.1	
<b>मंडल रेखा</b>		अलंकृत 227.4		<b>मंतर करना</b>		धर्म दीक्षक 742.26	
मंडल रेखा 968.13 ⇨		आलेपित 292.13		अभिमंत्रण करना 758.33		<b>मंत्र दर्शी</b>	
<b>मंडलाकार</b>		मंडा [मैदी] 592.19		<b>मंतर जंतर</b>		मंत्रर्षि 789.9	
वर्तुलाकार 976.16		देशित 589.25		अभिमंत्रण 758.6		<b>मंत्रदाता</b>	
वृत्ताकार 972.15		शोभायुक्त 226.11		<b>मंतर पढ़ना</b>		धर्म दीक्षक 742.26	
<b>मंडलाकार उद्बन्धन</b>		सजा घजा [सजी घजी] 226.13		अभिमंत्रण करना 758.33		धर्म शिक्षक 742.21	
मंडराव 1033.12		सहित 1006.2		<b>मंतव्य</b>		<b>मंत्र द्रष्टा</b>	
<b>मंडलाकार रेखा</b>		<b>-मंडित</b>		मत 343.1		मंत्रर्षि 789.9	
मंडल रेखा 968.13		सहित: प्रत्यय सूची 1006.5		मान्य 849.20		सरमा 787.23	
<b>मंडलपत्र</b>		<b>मंडित करना</b>		<b>मंत्र</b>		<b>मंत्र द्वारा विष हरण</b>	
कृपाण 924.1		मंडना 592.12		गुर 517.4		मंत्र द्वारा विष हरण 177.8 ⇨	
<b>मंडलाधीश</b>		<b>मंडितता</b>		परामर्श 332.1		<b>मंत्रधर</b>	
जनपद समूह प्रसासक 891.6		सहितता 1006.1		पूजा गीत सूची 749.26		परामर्शक 332.14	
सम्राट 882.24		<b>मंडी</b>		मंत्र 741.1 ⇨		राजा. मंत्री 889.20	
<b>मंडलाध्यक्ष</b>		अनाज मंडी 663.11		रहस्य 823.7		<b>मंत्र नाशक</b>	
जनपद समूह प्रसासक 891.6		बाज़ार 663.1		विष्णु 768.1		मंत्र नाशक 758.9 ⇨	
<b>मंडलित</b>		मंडी 663.8 ⇨		वैदिक छंद 452.6		<b>मंत्र नाश करना</b>	
घक्रिल 973.10		महल्ला 619.6		<b>मंत्र उच्चारण</b>		मंत्र काटना 758.34	
<b>मंडली</b>		व्यापारिक नगर 620.17		मंत्र नाशन 758.8		<b>मंत्र नाशन</b>	
कुडली 973.8		<b>मंडीर</b>		<b>मंत्र कथ्य</b>		मंत्र नाशन 758.8 ⇨	
गायक दल 460.19		धातु मल 214.5		मंत्र कथ्य 741.3 ⇨		<b>मंत्र पाठ</b>	
दल 691.1		लीह मल 214.6		<b>मंत्र कर्ता</b>		मंत्र पाठ 749.14 ⇨	
मंडली 691.5 ⇨		<b>मैकुआ</b>		मंत्रर्षि 789.9		<b>मंत्र पाठक</b>	
मित्र मंडली 705.4		मंडप 600.8		<b>मंत्र काटना</b>		मंत्र पाठी 749.15	
यात्री दल 1088.5		विवाह मंडप 802.29		मंत्र काटना 758.34 ⇨		<b>मंत्र पाठी</b>	
समिति 692.20		<b>मैकुवा</b>		<b>मंत्रकार</b>		मंत्र पाठी 749.15 ⇨	
समूह 690.1		छोटा मंडप 600.15		मंत्रर्षि 789.9		<b>मंत्र प्रभाव मिटाना</b>	
सर्प 123.10		<b>मैकुक</b>		<b>मंत्रकुशाक्ष</b>		मंत्र काटना 758.34	
सर्प सूची 123.16		मैठक 124.2		परामर्शकुशल 332.15		<b>मंत्र प्रयोग</b>	
<b>मंडलीक</b>		<b>मैकुकी</b>		<b>मंत्र चक्र</b>		अभिमंत्रण 758.6	
करदाता राजा 882.7		मैठक: प्रारंभिक रूप 124.3		गंडा तावीज़ 759.4		भूत निवारण 759.8	
<b>मंडलीय</b>		<b>मैकुक शिशु</b>		<b>मंत्र चालित</b>		सम्मोहन 367.2	
क्षेत्रीय 34.14		मैठक: प्रारंभिक रूप 124.3		अभिमंत्रित 758.40		<b>मंत्र प्रेरित शस्त्र</b>	
दलीय 691.7		<b>मैकुकी</b>		<b>मंत्रजिह्व</b>		मंत्र प्रेरित शस्त्र 922.4 ⇨	
परिधीय 972.16		क्रीड़ाप्रिय स्त्री 469.7		अग्नि 106.1		<b>मंत्र बाण</b>	
<b>मंडलीयता</b>		<b>मैकुर</b>		<b>मंत्रज्ञ</b>		मंत्र प्रेरित शस्त्र 922.4	
क्षेत्र स्तरीयता 35.1		धातु मल 214.5		तंत्र साधक 758.4		<b>मंत्र मारना</b>	
<b>मंडलेश</b>		लीह मल 214.6		परामर्शक 332.14		अभिमंत्रण करना 758.33	
जनपद समूह प्रसासक 891.6		<b>मैकना</b>		परामर्शकुशल 332.15		<b>मंत्रमुग्ध</b>	
राजा 882.6		आरोप लगाना 875.22		प्रेत साधक 759.13		अभिमंत्रित 758.40	
<b>मंडलेश्वर</b>		मैठना 592.12 ⇨		राजा: मंत्री 889.20		आरघ्ययित 379.8	
जनपद समूह प्रसासक 891.6		<b>मैकना</b>		<b>मंत्रणा</b>		दर्शकृत 758.41	
राजा 882.6		मंडप पूजन 800.32		परामर्श 332.1		सम्मोहित 367.6	
<b>मैकवा</b>		मैका [मैदी]		सीख 332.6		<b>मंत्र यंत्र</b>	
छोटा मंडप 600.15		अत्यलंकृत 227.6		<b>मंत्रणा कक्ष</b>		मंत्र तावीज़ 759.4	
<b>मैकवा</b>		मैका [मैदी]		मंत्रणा कक्ष 614.15 ⇨		<b>मंत्र रक्षता</b>	
शामियाना 600.17		मैका [मैदी] 592.19 ⇨		<b>मंत्रणाकार</b>		मंत्रर्षि 789.9	
<b>मैका [मैदी]</b>		प्लेटिंग 292.9		परामर्शक 332.14		<b>मंत्रर्षि</b>	
मैका [मैदी] 195.61 ⇨		मैकाई 592.7 ⇨		<b>मंत्रणाकुशल</b>		मंत्रर्षि 789.9 ⇨	
<b>मैकाई</b>		<b>मैकाव</b>		परामर्शकुशल 332.15		<b>मंत्रयात्री</b>	
देवरी 548.21		मैकाई 592.7		<b>मंत्रणा गृह</b>		जादूगर 474.11	
<b>मैकाई</b>		मैकाव बाघ 461.16		मंत्रणा कक्ष 614.15		प्रेत साधक 759.13	
मैकाई 195.14 ⇨		<b>मैके जाना</b>		<b>मंत्र तंत्र</b>		भूत निवारण कर्ता 759.9	
<b>मैकाई</b>		आरोप लगाना 875.21		मंत्र 741.1		<b>मंत्र बावी</b>	
मैकाई 195.14				<b>मंत्र तथ्य</b>		मंत्र पाठी 749.15	
				मंत्र कथ्य 741.3			

मंत्रविद  
परामर्शक 332.14  
परामर्शकुशल 332 15  
मंत्र विद्या  
तत्र क्रिया 758 3  
मंत्र विषयक  
मन्त्रीय 741 21  
मंत्र शर  
मत्र प्रेरित शस्त्र 922 4  
मंत्र शस्त्र  
मत्र प्रेरित शस्त्र 922 4  
मंत्र साधक  
अभिमंत्रण कर्ता 758 7  
मंत्र साधन  
अभिमंत्रण 758 6  
मंत्रसिद्ध  
अभिमंत्रित 758 40  
मंत्र सूची  
मत्र सूची 741 4 ⇨  
मंत्रालय  
मंत्रालय 883 17 ⇨  
मंत्रालय कक्ष  
दरबारे खास 695 10  
मंत्रावाहन  
मंत्रावाहन 1055 2 ⇨  
मंत्रावाहित  
मंत्रावाहित 1055 13 ⇨  
मंत्राविष्ट  
अभिमंत्रित 758 40  
मंत्राविष्टन  
स्तभन 758 29  
मंत्रित  
अभिमंत्रित 758 40  
मंत्रिमंडल  
मन्त्री मंडल 889 16  
मन्त्री  
परामर्शक 332 14  
मन्त्री 889 18 ⇨  
मन्त्री: कार्यालय  
मंत्रालय 889 17  
मन्त्रीत्व  
मन्त्रीत्व 889 19 ⇨  
मन्त्रीपति  
प्रधान मन्त्री 889 21  
मन्त्री प्रवर  
प्रधान मन्त्री 889 21  
मन्त्री मंडल  
मन्त्री मंडल 889.16 ⇨  
मन्त्री मंडल अध्यक्ष  
प्रधान मन्त्री 889 21  
मन्त्रीय  
मन्त्रीय 741.21 ⇨  
मन्त्रोपचार करना  
अभिमंत्रण करना 758.33  
मन्त्रोपदेश  
धर्म उपदेश 742.5  
मन्थ  
माङ्ग. कलछा 681 4

समुद्री तूफान 85.9  
मन्थ (अं)  
मास 43 1  
मन्थक  
मथन कर्ता 554 27  
मन्थज  
मक्खन 190  
मन्थन  
अनुपठन 321 28  
अनुशीलन 321 25  
घुटाई 540 3  
मथन 554 12 ⇨  
मर्दन 911.1  
विचारण 330 5  
विवेचन 427 14  
विवेचना 427 13  
मथनक  
मथन कर्ता 554 27  
मन्थन करना  
मथन करना 554 21 ⇨  
मन्थन कर्ता  
मथन कर्ता 554 27 ⇨  
मन्थन: दंड  
मथन दंड 554 14 ⇨  
मन्थन दंड (दे.)  
रई 560.3  
मन्थन: पात्र  
मथन पात्र 554 13 ⇨  
मन्थन: रस्सी  
मथन रस्सी 554 15 ⇨  
मन्थन: स्तंभ  
मथन स्तंभ 554 16 ⇨  
मन्थनी  
मथन दंड 554 14  
मन्थर  
मद 1045 10  
विकर्णयुक्त 1026 11  
मन्थर गति  
मंद गति 1045 2  
मन्थरण  
मद गमन 1045 3  
विमदन 1045 5  
वेग रोधन 1043 8  
मन्थरता  
मंदता 1045 1  
मन्थरा  
पट्टी पढ़ाने वाली 332 17  
मन्थरा 770.44 ⇨  
मन्थरा मापी  
मथरा मापी 958 30 ⇨  
मन्थरित  
वेग रुद्ध 1043.19  
मन्थली (अं)  
मासिक 71 19  
मन्था  
मेधी 281.28  
मन्थाघल  
मदर पर्यंत 17.12

मन्थाद्रि  
मंदर पर्वत 17 12  
मन्थित  
मथित 554 26 ⇨  
मन्थी  
मथन कर्ता 554 27  
मंद  
अतेजस्वी 839 10  
अप्रबल 488 14  
अबलिष्ठ 159 12  
अस्पष्ट 823 11  
आलसी 490 14  
क्षमताहीन 488 15  
धुंधला [धुंधली] 286 17  
प्रतिभाहीन 302 12  
प्रशामित 372 10  
बुझा [बुझी] 108 18  
मद 1045 10 ⇨  
मदघी 302 8  
म्लान 120 11  
विदर्ण 291 18  
शनि ग्रह 7 8  
स्फूर्तिहीन 492 14  
मदक  
प्रभाव मदक 511 21  
वेग रोधक 1043 9  
मंद करना  
वेग कम करना 1043.14  
मंदकर्मा  
आलसी 490 14  
मंदकांति  
शोभाहीन 226 12  
मंदग  
शनि ग्रह 7 8  
मंद गति  
मंद गति 1045 2 ⇨  
विलंबित गति 458 9  
मंद गमन  
मद गमन 1045.3 ⇨  
मंद गमन करना  
मद गमन करना 1045 8 ⇨  
मंदगामिता  
मदगामिता 1045 4 ⇨  
मंदगामी [मंदगामिनी]  
मंदगामी [मंदगामिनी] 1045 11 ⇨  
मंद चलना  
मंद गमन करना 1045 8  
मंदक्रिया  
मदक्रिया 628.17 ⇨  
मंदता  
मंदत 1045.15 ⇨  
मंदता  
अतेजस्विता 839.6  
अप्रबलता 488.3  
अस्पष्टता 823.1  
मंदता 1045 1 ⇨  
स्फूर्तिहीनता 492.3

मंद दृष्टि  
मंद दृष्टि 282.3 ⇨  
मंदधी  
मदधी 302.8 ⇨  
मंद ध्वनि  
मद ध्वनि 294 7 ⇨  
मंदन  
प्रभाव मदन 511 5  
विमदन 1045.5  
वेग रोधन 1043.8  
मंदन मापी  
मथरा मापी 958 30  
मंद पवन  
बयार 85.14  
मंद प्रकाश  
अर्ध प्रकाश 287 10  
मंदबुद्धि  
मदघी 302 8  
मंदभाग्य  
दुर्भाग्यशाली 260 34  
मंद मन्थर  
विलंबकारी 495 12  
मंद मन्थर गति  
गजगामिता 1084 4  
मंदमन्थरता  
मदगामिता 1045 4  
मंद मंद  
मदत 1045 15  
मंदमति  
मदघी 302 8  
मंद मधुर  
मधुर ध्वनिक 294 27  
मंद मार्घ  
स्तो मार्घ 1083 14  
मंदर  
मदार वृक्ष 13 31  
सोलह लक्षी मोती माला 228 44  
मंदर पर्वत  
पौराणिक पर्वत सूची 17 8  
मदर पर्वत 17.12 ⇨  
मंदराघल  
मदर पर्वत 17 12  
मंदरिन (चीन)  
प्रांत प्रशासक 882.31  
मंद वर्षा  
क्षीण वर्षा 54 9  
मंद तमीर  
बयार 85.14  
मंद स्वर  
मद स्वर 299.6 ⇨  
मंद स्वरिय  
मद स्वरिय 299.23 ⇨  
मंद हास  
मुस्कराहट 384.5  
मंद होना  
धुंधलाना 286 13  
वेग कम होना 1043 13

## मंदा [मंदी]

मंदा [मंदी]	देव मंदिर 745.30	स्वर अलंकार सूची 465.11	मधु 280.9
अतेजस्वी 839.10	भवन 602.7	मंशा	मकर
अप्रबल 488.14	मठ 745.7	अर्थ 426.1	कुबेर. नबनिधि सूची 779.12
अबलिष्ठ 159.12	स्मारकः प्रकार सूची 77.13	इच्छा 359.1	कूट युक्ति 819.8
अस्पष्ट 823.11	मंदिर कर्मी ब्राह्मण	प्रयोजन 508.1	घड़ियाल 123.5
कुठित 270.24	मंदिर कर्मी ब्राह्मण 731.16 ⇨	विचार 330.1	छल 827.7
क्षमताहीन 488.15	मंदिर का दिया	मंसूत्र	बहाना (मकर) 495.4
धुंधला [धुंधली] 286.17	मंदिर दीपक 285.14	निरस्त 338.39	मकरकेतु
प्रतिभाहीन 302.12	मंदिर गमन	मंसूत्री	कामदेव 773.12
प्रशामित 372.10	देव दर्शन 749.37	निरसन 338.9	मकरध्वज
बुझा [बुझी] 108.18	मंदिरः दीपक	मई	कामदेव 773.12
मंद 1045.10	मंदिरः दीपक 285.14 ⇨	ईसवी मास सूची 43.4	मकर ध्वज
मंद स्वरीय 299.23	मंदिर प्रतिष्ठापना	मई दिवस	पंच कामदेव सूची 773.13
मंदा [मंदी] 664.33 ⇨	मंदिर प्रतिष्ठापना 598.7 ⇨	मई दिवस 58.15 ⇨	मकरध्वज
विदर्ण 291.18	मंदिर प्रबंधक	मकरई	राक्षस सूची 784.4
स्फूर्तिहीन 492.14	मठ मंदिर प्रबंधक 744.3	अनाज सूची 187.6	मकर राशि
मंदाकिनी	मंदिरः बड़ा घंटा	मक्का 187.17	राशि सूची 4.8
आकाश गंगा 1.14	मंदिर बड़ा घंटा 461.29 ⇨	मकरइ	मकर संक्रांति
गंगा नदी 20.10	मंदिर भण्डि	अभिमान गति 1084.2	दक्षिण अयनात 5.21
पौराणिक नदी सूची 20.23	शिव 767.1	मकरजाल	लोहड़ी 57.42
मंदाकिनीय नीहारिका	मंदिर मसजिद	जाला 572.17	मकर से म्भिुन राशि तक सूर्य गति काल
मंदाकिनीय नीहारिका 1.10 ⇨	उपासनालय 745.13	मकराना	उत्तरायण 5.17
मंदाक्रांत [मंदाक्रांता]	मंदिर मूर्ति	अभिमान से चलना 1084.28	मकरालय
मंदगामी [मंदगामिनी] 1045.11	देव मूर्ति 746.1	इतराना 860.15	समुद्र 24.1
मंदाग्नि	मंदिर शिखर	मकड़ी	मकराश्व
अजीर्ण 183.26	मंदिर शिखर 611.2 ⇨	कीट सूची 122.12	वरुण 773.43
मंदात्मा	मंदी	मकड़ी 122.36 ⇨	मकरी
अधम 840.4	अप्रबलता 488.3	मकतब	नौका बधन स्थान 1073.19
मंदान	मदता 1045.1	अक्षरारंभ 321.4	मकरी 1073.36 ⇨
नीकाग्र 1073.23	माल बहुतायत 656.3	शिक्षार्थ आरंभ सूची 321.3	मछली 125.1
मंदानिल	व्यापारिक मदी 664.13	शिक्षालय 321.9	लंग्गा 563.6
बयार 85.14	मंदी होना	शिक्षालय सूची 321.11	मकरसद
मंदानुभूति	मदी होना 664.23 ⇨	मकतब (इसलाम)	उद्देश्य 508.2
अवसादानुभूति 353.5	मंदुचा पाल	विद्यारंभ संस्कार 792.23	पयोजन 508.1
मंदापन	अश्वयान घालक 1079.5	मकतबा	मकरसुद
मंदता 1045.1	मंदोदरी	इसलामी धार्मिक पाठशाला 742.3	इच्छित 359.19
मंदार	पंचकन्या सूची 774.18	मकरतल	उद्दिष्ट 508.8
घतूरा 212.7	पतली कमर वाली 158.30	हत्या स्थल 251.6	मकान
मंदार वृक्ष 13.31	मंदोदरी 784.26 ⇨	मक्रता	गृह 601.1
मस्त हाथी 127.41	राक्षस स्त्री सूची 784.23	गजल समापन शोअर 452.31	पता निर्देश 444.14
राग रागिनी सूची 457.24	रावण. पत्नी 784.17	मकरतूल	भवन 602.7
स्वर्ग 259.1	मंदोदरीः पति	मारा [मारी] 251.23	मकानदार
हाथी 127.38	रावण 784.12	हत्या कृत 251.22	आवास स्वामी 621.21
मंदारक	मैंदोई	मकरनालीस	मकानदारी
मंदार वृक्ष 13.31	मंदोदरी 784.26	चुबक पत्थर 1050.8	भू संपत्ति सूची 624.12
मंदार वृक्ष	मंदोष्ण	मकरबरा	मकान मालिक
मंदार वृक्ष 13.31 ⇨	अल्प उष्ण 104.21	मकरबरा 255.7 ⇨	आवास स्वामी 621.21
स्वर्ग वृक्ष सूची 13.28	मंज	स्मारकः प्रकार सूची 77.13	मकानों के बीच पतला नाली मार्ग
मंदिता	गंभीर स्वरीय 299.24	मकरबूल	आवधक 1083.51
वेग रुद्ध 1043.19	प्रसन्न कर्ता 381.8	पसंद 400.11	मकालु
मंदिता (प्रभाव)	मंज ध्वनि	स्वीकृत 337.16	भारत उपमहाद्वीप. पर्वत सूची 17.1
मंदिता (प्रभाव) 511.20 ⇨	गंभीर स्वर 299.7	मकरभूलियत	मकुना
मंदिमा	मंज सप्ताक	लोकप्रियता 849.9	दाढ़ी मूँछ हीन 136.9
अतेजस्विता 839.6	सप्ताक सूची 459.4	मकरचंद्र	मूँछहीन 136.11
आलस्य 490.5	मंज से नीचे काल्पनिक सप्ताक	केसर 115.11	मकोई
मंदिर	बादतर सप्ताक 459.5	कोबल 126.21	मकोय 190.30
अगला डैक 1073.28	शंज स्वर	पुष्प रस 84.6	मकोका
गृह 801.1	गंभीर स्वर 299.7	भ्रमर 122.33	कीट 122.9

मकोड़ी  
छोटा कीट 122 10  
मकोय  
मकोय 190 30 ⇨  
मक्का  
मक्का 187.17 ⇨  
मक्का मदीना: यात्रा  
हज यात्रा 1089 7  
मक्कार  
कुटिल 818 7  
छली 827 24  
मक्कारी  
कुटिलता 818 3  
कूट युक्ति 819 8  
छल 827 7  
पाखंड 825 7  
मक्की  
मक्का 187 17  
मक्कील  
खड़िया मिट्टी 100 13  
मक्खन  
मक्खन 196.6 ⇨  
स्निग्ध सूची 196 2  
मक्खनदानी  
घाय काकी बरतन सूची 680 20  
मक्खनदार  
मक्खन लगा 197 20  
मक्खन निकला दही  
मट्टा 193 10  
मक्खन निकालना  
मथन करना 554 21  
मक्खन लगा  
मक्खन लगा 197.20 ⇨  
मक्खन लगा [मक्खन लगी]  
स्निग्ध 197 16  
मक्खनी  
क्रीमिया 289 41  
मक्खन लगा 197 20  
मक्खी  
कीट सूची 122 12  
बदक मक्खी 927.8  
मक्खी 122 37 ⇨  
मधुमक्खी 122 39  
मक्खीधूस  
अति कृपण 639 27  
मक्खी पर मक्खी मारना  
अधानुकरण करना 505 17  
मक्खतब  
मक्खतब 798.28 ⇨  
मक चौदनी  
मायावी दूरय 312 8  
मक्षिका  
मक्खी 122 37  
मधुमक्खी 122 39  
मख  
जादूगर 474 11  
मग 791.18  
यज्ञ 753.1

मखज़ान  
बारुद घर 929 5  
भंडार घर 870 5  
मखतूल  
काला रेशम 578.19  
मख डेबी  
पिशाच 181 8  
राक्षस 784.1  
शिय 767 1  
मखनिया  
क्रीमिया 289 41  
मक्खन लगा 197 20  
मखनी  
कोमल 269.18  
यिकना [यिकनी] 269 22  
मखमल  
मखमल 580 34 ⇨  
मखमली  
कोमल 269 18  
यिकना [यिकनी] 269 22  
मखमूर  
मदोन्मत 211.15  
मखशास्ता  
यज्ञ शाला 753 18  
मखसूस  
यिशिट 312 15  
मखहा  
इंद्र 773.5  
मखात्र  
हय्यात्र 753 26  
मखील  
नोकझोक 385.8  
विनोद 385 1  
व्यंग्य 844 5  
मखीलिया  
विनोदी 385 13  
मग  
अहुरमज्द 764 13  
पारसी 736 28  
मग 684.14 ⇨  
मग 791.18 ⇨  
मार्ग 1063.1  
मग (अँ)  
मग 684 14  
मगज  
नारियल: गिरी 112.6  
भेजा 140 10  
मस्तिक 141 9  
मगजघट  
बकवासी 428.26  
मगजघट्टी  
बकवास 428 7  
मगजपच्छी  
माथापच्छी 321.31  
माज़ी  
गोट 571.35  
मगज़ी दोहर  
दोहर 593.10

मगण (SSS)  
वार्षिक गण सूची 452.43  
मगध  
बिहार 28.52  
मगधेश्वर  
जरासंध 771.58  
मगन  
आनंदशील 382.19  
तल्लीन 331.14  
प्रसन्न 381.7  
मगन होना  
आनंदित होना 382.11  
प्रसन्न होना 381 4  
मगर  
किंतु 507 16  
घड़ियाल 123 5  
मगरमच्छ  
घड़ियाल 123.5  
मगरमच्छी आँसू  
दिखावटी आँसू 387 2  
मारिब  
परिधम 29.12  
मारिबी  
परिधमी 29.33  
मारकर  
अभिमानि 858 10  
दर्पी 858 13  
मगरैला  
कलीजी 281 12  
मगस  
मक्खी 122.37  
मधुमक्खी 122.39  
मगसिर  
मार्गशीर्ष 43 15  
मग्गा  
मग 684 14  
मगज़  
गिरी 191.14  
नारियल: गिरी 112.6  
फल गुदा 191 13  
बीज गिरी 112.2  
भेजा 140 10  
मगज़पच्छी  
माथापच्छी 321.31  
मगन  
डूबा [डूबी] 1031.31  
तल्लीन 331.14  
प्रसन्न 381.7  
मगनता  
आनंद 382.1  
तल्लीनता 331 6  
मघ  
अहुरमज्द 764.13  
तिलिस्मगर 474.14  
पारसी धर्माधिकारी 744 37  
मघवा  
उल्लू 126.14  
पारसी धर्माधिकारी 744.37

मघवा कौशिक  
शिव 767.1  
मघवाजित  
मघनाद 784.10  
मघा  
नक्षत्र सूची 4.6  
मघाभव  
शुक्र ग्रह 7.9  
मघी  
जादूगर 474.11  
पारसी धर्माधिकारी 744.37  
मग 791 18  
मघोनी  
शायी 774.89  
मघीना  
नीला वस्त्र 578.20  
मघक  
दबक 989.3  
लघक 1050.14  
लघक मटक 1084.20  
लहक 1084 21  
मघकना  
लघकना 1050 27  
मघका  
झाँटा 1034 2  
मघना  
गतिविधि होना 502.6  
घटित होना 75.8  
व्याप्त होना 981.8  
मघमघाना  
लघकना 1050.27  
मघल  
लालसा 359.5  
हठ 349.4  
मघलना  
रोना 386 16  
लालसा करना 359.14  
हठ करना 349 9  
मघलाहट  
मिघलाहट 215.27  
मघली  
वमन 215.26  
मघान  
आखेट मघ 252 23  
कृषि स्वण मघान 550.4  
मघाना  
गतिविधि करना 502.7  
मघिया  
हुनी चौकी 595 18  
मच्छ  
मच्छली 125 1  
मच्छर  
कीट सूची 122.12  
मच्छर 122.38 ⇨  
शालभ 122.42  
मच्छर जाली  
मसहरी 593.62

## मच्छरदानी

### मच्छरदानी

मसहरी 593 62

### मच्छी

मछली 125.1

मत्स्य मास 206 24

### मच्छीमार

मत्स्य आखेटक 252 16

### मछरंगा

मछरंगा 126 62 ⇨

### मछली

मछली 125 1 ⇨

मत्स्य अवतार 769 32

मत्स्य मांस 206 24

लक्ष्य धरू 931 6

### मछली आदिः श्वासरंघ

श्वास रंघ 145.16

### मछलीः कौटा

मत्स्य आखेट. कौटा 252 17

### मछलीः कौटे

मत्स्य अस्थि 133 4

### मछली गड्डा

मछली गड्डा 252.27 ⇨

### मछली घर

मत्स्य कुंड 603.11

### मछली घारा

मछली घारा 252.9 ⇨

### मछलीः चौई

मत्स्य शालक 134 18

### मछली जाल

मछली जाल 1013.13 ⇨

### मछली जाल सूची

मछली जाल सूची 1013.14 ⇨

### मछली झाबा

मछली टोकरी 677 9

### मछली टोकरी

मछली टोकरी 677.9 ⇨

### मछली पकबना

मत्स्य आखेट करना 252 30

### मछली पालन

मत्स्य पालन 555 7

### मछलीः बंसी

मत्स्य आखेटः बंसी 252 18

### मछली बाजार

केलाहलपूर्णाः उपमान सूची 294.33

### मछली बाजार

विविध सामग्रीः उपमान सूची 689 5

### मछली मारना

मत्स्य आखेट करना 252.30

### मछली समूह

मछली समूह 690.7 ⇨

### मछया

नीका सूची 1072 3

मछुआरी नाव 1072.30

### मछुआ

नायिक 1080.21

मत्स्य आखेटक 252 16

### मछुआ कर्म

मछुआ कर्म 252 15 ⇨

### 1384

### मछुआरा [मछुआरिन]

मत्स्य आखेटक 252 16

### मछुआरी नाव

मछुआरी नाव 1072.30 ⇨

### मछुआरी बेड़ा

मछुआरी बेड़ा 1072 31 ⇨

### मछुया

मत्स्य आखेटक 252 16

### मछोदरी

सत्यवती 771 95

### मजकूर

उल्लिखित 437 13

घणित 436 9

### मजदूर

अकुशल श्रमिक 651.21

कुली 1061 4

खनि कर्मी 1018 8

खलासी 1080 22

राज मजदूर 599.22

श्रमिक 651.19

### मजदूरवाद

साम्यवाद 884 19

### मजदूर संघ

श्रमिक संघ 692 19

### मजदूरी

कुलीगरी 1061 3

पारिश्रमिक 643.8

राज मजदूरी 599 21

श्रमिकता 651.18

### मजनू

पागल व्यक्ति 354 15

प्रेमी 368 2

### मजनू की पसलियाँ

ककड़ी 190.12

### मजनूनपन

प्रेमासक्ति 368 8

### मजबूत

अखंडनीय 326.19

अभंजनशील 539 9

अविचल 500.15

कसरती 160.14

दीर्घ कालीन 37 10

दृढकाय 160 12

प्रबल 487.24

प्रभावशाली 511.17

बलिष्ठ 160.10

शक्तिशाली 487 20

### मजबूत

सुगठितकाय 160.13

### मजबूत

सुदृढ 160.15

### मजबूती

अनश्वरता 37.3

अयोध्यता 519.14

दीर्घ कालीनता 37.4

प्रबलता 487.6

शारीरिक बल 160.2

सुदृढता 160.7

### मजबूती से

दीर्घपूर्वक 394.19

### मजबूर

अधिकारहीन 898.3

विकल्पहीन 516 5

विवश 901 11

### मजबूरन

पराधीनत 901 12

### मजबूरन

विकल्पहीनत 516.8

### मजबूरन

विवशत 901 13

### मजबूरी

अधिकारहीनता 898 1

### मजबूरी

असहायता 701 2

### मजबूरी

विकल्पहीनता 516 3

विवशता 901 3

### मजबूरी से

विवशत 901 13

### मजमा

अव्यवस्थित समूह 690 4

### मजमूआ

जोड़ फल 954 3

सकलन पुस्तक 446 23

संग्रह 669 2

समुद्ध्यय 686 1

### मजमूई

सामूहिक 690.13

### मजमून

निबध 449.15

मुद्रण पांडुलिपि 412.30

लेख 449 17

### मजमेबाज़

मजमेबाज़ 473.22 ⇨

### मजमेबाज़ी

मजमेबाज़ी 473.21 ⇨

### मजम्मत

निंदा 843.1

### मजकूआ

जुता हुआ खेत 551.13

### मजकूह

घायल 168 7

### मजलिस

अधिवेशन 694.14

उर्स 57.49

गोष्ठी 694.4

नमाज़ः जलसा 751 14

संगीत नृत्य सभा 468 4

सभा 694 1

सभा स्थल 695 11

### मजलिसी

सभा विषयक 694.27

### मजलिसे अदब

साहित्य गोष्ठी 694.8

### मजलिसे चुन्न

काव्य गोष्ठी 694.9

### मजलूम

अत्याचारित 835 12

उत्पीड़ित 391 28

### मजहब

धर्म 735 1

### मजहबी

धर्मशील 735 13

धर्मानुयायी 735.16

धर्मीय 735 11

मजहबी सिख 737 25

### मजहबीयत

धर्मशीलता 735 2

### मजहबी सिख

मजहबी सिख 737.25 ⇨

### मज़ा

आनंद 382 1

भोग लिप्ता 363 4

मनोरंजन 469 1

रोचकता 400 4

विलास 363 6

### मज़ाक़

उपहास 844 1

विनोद 385 1

### मज़ाक़ उक़ाना

उपहास करना 844 6

### मज़ाक़न

विनोदपूर्वक 385.15

### मज़ाक़पसंद

विनोदी 385 13

### मज़ाक़पसंदी

विनोद प्रेम 385 2

### मज़ा करना

मनोरंजन करना 469 9

### मज़ाक्रिया

हास्यप्रद 384 14

### मज़ा किरकिरा होना

आनंद भंग होना 383.6

### मज़ार

क़ब्र 254 18

मज़ार 255.8 ⇨

रोज़ा 745.19

### मज़ारः घादर

मज़ारः घादर 255.9 ⇨

### मजाल

क्षमता 487.7

साहस 394.1

### मज़ाहिया

विनोदी 385.13

### मज़ीदिया

गहरा लाल 289.61

### मज़ीरा

मैंजीरा 461.70

### मज़ूर

अकुशल श्रमिक 651.21

राज मजदूर 599.22

श्रमिक 651 19

### मज़ूरी

कुलीगरी 1061 3



पारिश्रमिक 643 8  
 मज्जे करना  
 धिता न होना 378.5  
 विलास करना 363 12  
 मज्जेदार  
 आनदप्रद 382 18  
 मनोरंजनपूर्ण 469 11  
 रोचक 400 12  
 स्वादिष्ट 275 20  
 मज्जेवारी  
 रोचकता 400 4  
 मज्जे मज्जे मे  
 शिथिल गति से 1045.17  
 मज्जे से गुजरना  
 धिता न होना: 378 5  
 मज्जन  
 स्नान 221 9  
 मज्जना  
 स्नान करना 221 22  
 मज्जा  
 देह मल सूची 215.2  
 फल गुदा 191 13  
 मज्जा 132 3 ⇨  
 मज्जायुक्त  
 मज्जायुक्त 132.20 ⇨  
 मज्जाहीन  
 मज्जाहीन 132 21 ⇨  
 मज्जाम  
 मध्यमीय 996 6  
 मज्ज  
 अहुरमज्ज 764 13  
 मज्ज  
 मध्य 996 1  
 मज्जधार में  
 कार्य मध्य मे 996 9  
 मज्जाला [मज्जाली]  
 मध्यम 978 6  
 मध्यम राशीय 947 27  
 मध्यम स्तरीय 313.18  
 मध्ययती 996 7  
 मध्येष्ठ 229 27  
 मज्जोला [मज्जोली]  
 मध्यम 978.6  
 मध्यम स्तरीय 313.18  
 मध्ययती 996 7  
 मज्जोलोपान  
 मध्यमता 978 2  
 मज्जोला साइज़  
 मज्जोला साइज़ 961.12 ⇨  
 मट  
 घड़ा 679.1  
 मटक  
 नर्तन 462.12  
 लषक मटक 1084.20  
 मटकन  
 इतराहट 860 5  
 मटकना  
 इतराना 860.15

चंचलता दिखाना 860.16  
 नाचना 462 26  
 लषकना मटकना 1084 41  
 मटकना [मटकनी]  
 इतराहट 860 20  
 मटकनी  
 छोटा घड़ा 679.2  
 मटका  
 घड़ा 679 1  
 बड़ा मुँह घड़ा 679 4  
 मथन पात्र 554.13  
 मटकी  
 छोटा घड़ा 679.2  
 मटकीला  
 शृंगार प्रेमी (पुरुष) 222.5  
 मटकीला [मटकीली]  
 इतराहट 860 20  
 मटकू  
 इतराहट 860.20  
 मटकेना  
 कुल्हड़ 684 7  
 मटक्का  
 तुमका 1084 9  
 मटन (अँ)  
 छाग मांस 206.22  
 मटमैला [मटमैली]  
 खाकी 289 42  
 धूलिमय 100 24  
 धूसर 289 47  
 मटियाला [मटियाली] 100 26  
 मटमैलापन  
 धूसरता 289.13  
 मटर  
 दलहन सूची 188 7  
 मटर 189 31 ⇨  
 साग सब्जी सूची 189 4  
 मटरगहरी  
 विचरण 1085 1  
 मटरगहरी करना  
 विचरना 1085 10  
 मटर दाना  
 मटर दाना 977.8 ⇨  
 मटर माला  
 मटर माला 228 54 ⇨  
 मटर: सूखा दाना  
 मटरा 188 12  
 मटरा  
 दलहन सूची 188 7  
 मटरा 188.12 ⇨  
 मटरी  
 मटर दाना 977.8  
 मटिया  
 धूलिमय 100.24  
 मटियाला [मटियाली] 100 26  
 माटीय 100.25  
 मिट्टी 100.8  
 मटिया फूस  
 अद्क 159.16

मटिया मसान  
 नष्ट 531.7  
 मटिया मेट  
 नष्ट 531 7  
 मटिया मेट करना  
 नष्ट करना 531 5  
 मटिया मेट होना  
 नष्ट होना 531.4  
 मटियार  
 माटीय 100.25  
 मटियारा [मटियारी]  
 मटियाला [मटियाली] 100.26  
 मटियाला [मटियाली]  
 खाकी 289 42  
 धूसर 289 47  
 मटियाला [मटियाली] 100.26 ⇨  
 मटियालापन  
 कुदृश्यता 282.11  
 धूसरता 289 13  
 मट्टी  
 मिट्टी 100.8  
 मट्ठर  
 अति मंद 1045 12  
 आलसी 490.14  
 कामघोर 490 10  
 शिथिलगामी 1045 14  
 स्फुर्तिहीन 492 14  
 मट्ठर बैल  
 कामघोर बैल 127 14  
 मट्ठा  
 मट्ठा 193 10 ⇨  
 रायता 201 7  
 मट्ठी  
 मठरी 200 29  
 ६.१  
 देव मंदिर 745 30  
 मठ 745 7 ⇨  
 मठ प्रबंधक  
 मठ मंदिर प्रबंधक 744.3  
 मठ मंदिर  
 उपासनालय 745 13  
 मठ मंदिर प्रबंधक  
 मठ मंदिर प्रबंधक 744.3 ⇨  
 मठरातै  
 शिथिल गति से 1045 17  
 मठराना  
 इतराना 860.15  
 शिथिल गमन करना 1045.9  
 मठरी  
 मठरी 200.29 ⇨  
 मठली  
 मठरी 200.29  
 मठा  
 मट्ठा 193.10  
 मठाधिकारिणी  
 मठाधीश स्त्री 744 2  
 मठाधीश  
 मठाधीश 744.1 ⇨

मठाधीश स्त्री  
 मठाधीश स्त्री 744.2 ⇨  
 मठाथतन  
 मठ 745.7  
 मठिया  
 छोटा मठ 745 8  
 मठी  
 छोटा मठ 745.8  
 मठोठा  
 कुआँ: चबूतरा 810.11  
 मठोर  
 मथन पात्र 554 13  
 मठराय  
 मँठराय 1033.12  
 मठवा  
 मंडप 800.8  
 मठैया  
 मिट्टी: कुटी 802.3  
 मठ  
 मठ 745 7  
 मठई  
 मिट्टी: कुटी 802.3  
 मठना  
 मँठना 592.12  
 मठरी  
 आश्रम 745 2  
 कुज गली 1063.20  
 छोटा मंदिर 745 31  
 छोटा मठ 745 8  
 मजारा 255.8  
 मिट्टी: कुटी 802 3  
 मठैया  
 छोटा मंदिर 745 31  
 मणि  
 नगीना 228 51  
 नाग: विहन 778 14  
 प्रिज़म 289 6  
 मणि 96.15 ⇨  
 मनका 228.48  
 रत्न 96 1  
 रत्न सूची 96.5  
 सिक्का 629.1  
 सूर्य 8 1  
 मणिकंठ  
 नीलकंठ 126 46  
 मणिक  
 घड़ा 679 1  
 भग 152 13  
 मणिक (प्र)  
 नेत्र: लेंस 141.10  
 लेंस 283.4  
 मणिका  
 मनका 228.48  
 मणि काष  
 बाण: पृष्ठभाग 926.19  
 स्फटिक 283.20  
 मणिकार  
 आधुषण व्यापारी 566.11

## मणित

- जङ्गिया 566.3  
**मणित**  
 केलासित 81.16  
**मणि दोष**  
 रत्न दोष 98.2  
**मणिधर**  
 नाग 778.12  
 सर्प 123.10  
**मणिनील**  
 गहरा नीला 289.50  
**मणिपुर**  
 मणिपुर 28.54 ⇨  
**मणिपुरः राजधानी**  
 मणिपुरः राजधानी 28.55 ⇨  
**मणिपुरी**  
 भारतः राष्ट्रभाषा सूची 421.4  
 भारतीय शास्त्रीय नृत्य सूची 462.7  
**मणिपुर**  
 नामि 148.3  
**मणिपुर षड्**  
 षड्धरु सूची 757.8  
**मणिबंध**  
 आस्तीनः कक्र 585.78  
 कलाई 149.10  
**मणिभ**  
 केलास 79.11  
 स्फटिक 283.20  
**मणिम अवस्था**  
 केलास अवस्था 79.10  
**मणिभद्र**  
 यक्ष सूची 779.3  
**मणिभित्त**  
 केलासित 81.16  
**मणि भित्ति**  
 शेषनागः प्रासाद 778.23  
**मणिभीकरण**  
 केलासन 81.4  
**मणिभूत**  
 केलासित 81.16  
**मणि भूमि**  
 रत्न खान 92.15  
**मणि भूमिका कर्म**  
 र्चासठ कला सूची 397.4  
**मणि मंडप**  
 शेषनागः प्रासाद 778.23  
**मणि माला**  
 मनका माला 228.52  
 रत्न माला 228.34  
 लक्ष्मी 775.1  
**मणि राग**  
 सिंदूर 225.18  
**मणि राग ज्ञान**  
 र्चासठ कला सूची 397.4  
**मणिराज**  
 हीरा 96.28  
**मणिधर**  
 हीरा 96.28
- मणिसर**  
 मोती माला 228.33  
**मणि सूत्र**  
 मोती माला 228.33  
**मणींद्र**  
 हीरा 96.28  
**मणीच**  
 मोती 97.2  
**मणीचक्र**  
 मछरंगा 126.62  
**मत्तंग**  
 मेघ 55.1  
**मत्तंगज**  
 हाथी 127.38  
**मत्तंगः शिष्या**  
 शबरी 770.63  
**मत्तंगी**  
 गजारोही 1082.11  
**मत**  
 दार्शनिक प्रणाली 760.4  
 धर्म 735.1  
 धारणा 343.7  
 नहीं 338.51  
 परामर्श 332.1  
 मत 343.1 ⇨  
 मतदान पत्र 888.20  
 वाद 343.10  
 सिद्धांत 343.9  
**मत अपरिवर्तन**  
 दृढमतता 343.2  
**मतदाता**  
 निर्वाचक 888.5  
 मतदाता 888.17 ⇨  
**मतदान**  
 निर्वाचन 888.1  
 मतदान 888.16 ⇨  
**मतदान कक्ष**  
 मतदान कक्ष 888.19 ⇨  
**मतदान केंद्र**  
 मतदान केंद्र 888.18 ⇨  
**मतदान पत्र**  
 मतदान पत्र 888.20 ⇨  
**मतपत्र**  
 मतदान पत्र 888.20  
**मत परिवर्तन**  
 धर्म परिवर्तन 742.14  
 मत परिवर्तन 344.3 ⇨  
**मत प्रणाली**  
 वाद 343.10  
**मत भिन्नता**  
 मतभेद 338.4  
**मतभेद**  
 एकता भंग 699.2  
 मतभेद 338.4 ⇨  
 वैमनस्य 706.10  
**मतभेदपूर्ण**  
 मतभेदपूर्ण 338.36 ⇨
- मतभेद प्रदर्शन**  
 मतभेद प्रदर्शन 338.5 ⇨  
**मतभेद प्रदर्शन करना**  
 मतभेद प्रदर्शन करना 338.21 ⇨  
**मतभेदहीन**  
 सर्वसहमत 337.21  
**मतभेदहीनता**  
 सर्व सहमति 337.4  
**मतभेद होना**  
 मतभेद होना 338.20 ⇨  
**मत मतांतर**  
 स्वधर्म परधर्म 735.6  
**मत मौगना**  
 समर्थन मौगना 329.15  
**मत मिलना**  
 सहमत होना 337.11  
**मतयुक्त**  
 मतयुक्त 343.12 ⇨  
**मतलब**  
 अर्थ 426.1  
 इच्छा 359.1  
 प्रयोजन 508.1  
 संबंध 715.1  
 स्वार्थ 712.5  
**मतलब गौठना**  
 स्वार्थ साधन करना 712.12  
**मतलब निकालना**  
 स्वार्थ साधन करना 712.12  
**मतलब धरस्त**  
 अवसरवादी 827.18  
**मतलब परस्ती**  
 अवसरवादिता 827.3  
**मतलब पूरा होना**  
 सफल होना 512.3  
**मतलब यह है**  
 अर्थात् 426.41  
**मतलब से**  
 प्रयोजनतः 508.11  
**मतलब होना**  
 प्रयोजन होना 508.5  
**मतलबी**  
 अवसरवादी 827.18  
 स्वार्थी 712.16  
**मतलबी दोस्त**  
 सस्वार्थ मित्र 705.8  
**मतलबी होना**  
 स्वार्थपरक होना 712.11  
**मतला**  
 राजल आरंभिक शेर 452.30  
**मतलाइट**  
 मिचलाइट 215.27  
**मतली**  
 मिचलाइट 215.27  
**मत बाला**  
 मतयुक्त 343.12  
**मतबाला [मतबाली]**  
 अलमस्त 382.23  
 उत्साही 491.11
- मतांघ** 343.18  
 मदीमस्त 211.15  
 हठी 349.14  
**मताबालापन**  
 अलमस्ती 382.7  
 प्रेमासक्ति 368.8  
**मत वैशिष्य**  
 मतभेद 338.4  
**मतहरी**  
 माता 717.7  
**मतहीन**  
 मतहीन 344.11 ⇨  
**मतहीनता**  
 मतहीनता 344.2 ⇨  
**मतांतर**  
 परधर्म 735.8  
 मतभेद 338.4  
**मतांतरण**  
 धर्म परिवर्तन 742.14  
**मतांध**  
 कठमुल्ला 343.22  
 मतांध 343.18 ⇨  
**मतांधता**  
 मतांधता 343.11 ⇨  
**मताधिकार**  
 मताधिकार 888.15 ⇨  
**मताधिकारी**  
 मताधिकारी 888.35 ⇨  
**मतानुगमन**  
 अनुगमन 345.2  
**मतानुगामिता**  
 अनुगामिता 345.1  
**मतानुगामी**  
 अनुगामी 345.7  
**मतानुगामी होना**  
 मतानुगामी होना 345.5 ⇨  
**मतानुयायी**  
 अनुगामी 345.7  
 धर्मानुयायी 735.16  
**मतावलंबन**  
 वाद 343.10  
**मतावलंबिता**  
 पक्षधरता 885.1  
**मतावलंबी**  
 अनुगामी 345.7  
 धर्मानुयायी 735.16  
 पक्षधर 885.33  
**मति**  
 अनुमति 337.5  
 नहीं 338.51  
 मस्तिष्क 140.9  
 व्यवहार कुशलता 828.3  
 सुझाव 332.5  
**मतिपूर्ण**  
 सुझावपूर्ण 332.16  
**मतिभ्रंश**  
 पागलपन 354.14

मतिभ्रम  
भ्रम 342.1  
मतिभ्रम होना  
प्रमित होना 342.9  
मतिभ्रष्ट  
भ्रष्टधी 302.10  
मतिभ्रांत  
प्रमित 342.10  
मतिमंद  
मंदधी 302.8  
मतिमान [मतिमती]  
बुद्धिमान 301.21  
मतियुक्त  
सुझायपूर्ण 332.16  
मतिहीन  
मूर्ख 302.7  
मतीय  
धर्मीय 735.11  
मतीई  
सीतेली माता 717.11  
मतीक्य  
अतिदेश 435.13  
सर्व सहमति 337.4  
मतीक्यतः  
सर्वसहमततः 337.27  
मतीक्यपूर्ण  
सर्वसहमत 337.21  
-मत् [-मती]  
सहित. प्रत्यय सूची 1006.5  
मत्कुण  
खटमल 122.17  
मत  
उन्मत्त 354.22  
दर्पी 858.13  
मदोन्मत्त 211.15  
-मत्ता  
सहितता 1006.1  
मत्सिमा  
घट्टोन्माद 354.6  
मत्तेभ  
मत्त हाथी 127.41  
मत्था  
मस्तक 140.12  
सिर 140.1  
मत्थे  
दायित्व पर 895.14  
मत्थे मैत्रना  
मिथ्या आरोप लगाना 875.23  
मत्स  
मछली 125.1  
मत्सर  
ईर्ष्या 709.1  
ईर्ष्यालु 709.6  
कृपण 639.26  
शत्रुता 708.1  
बहिष्कार सूची 812.5  
मत्सरताः  
ईर्ष्यापूर्वक 709.11

मत्सरता  
कृपणता 639.9  
मत्सरपूर्ण  
ईर्ष्यापूर्ण 709.4  
वैमनस्यपूर्ण 706.21  
मत्सरहीन  
ईर्ष्याहीन 709.7  
मत्सरी  
ईर्ष्यालु 709.8  
मत्स्य  
मछली 125.1  
मत्स्य अवतार 789.32  
विष्णु, चौबीस अवतार सूची 789.9  
विष्णु दस अवतार सूची 789.8  
मत्स्य अवतार  
मत्स्य अवतार 789.32 ⇨  
मत्स्य अवतार कालः राजा  
वैवस्वत मनु 788.5  
मत्स्य अस्थि  
मत्स्य अस्थि 133.4 ⇨  
मत्स्य आखेट  
मत्स्य आखेट 252.14 ⇨  
मत्स्य आखेटक  
मत्स्य आखेटक 252.16 ⇨  
मत्स्य आखेट करना  
मत्स्य आखेट करना 252.30 ⇨  
मत्स्य आखेटः कौटा  
मत्स्य आखेटः कौटा 252.17 ⇨  
मत्स्य आखेटः डोरी  
मत्स्य आखेटः डोरी 252.19 ⇨  
मत्स्य आखेटः बंसी  
मत्स्य आखेटः बंसी 252.18 ⇨  
मत्स्य कटक  
मत्स्य अस्थि 133.4  
मत्स्य कुंड  
मत्स्य कुंड 603.11 ⇨  
मत्स्यगंधा  
सत्यवती 771.95  
मत्स्य चक्र  
लक्ष्य चक्र 931.6  
मत्स्य चर्म  
शार्क चर्म 582.11  
मत्स्य जाल  
मछली जाल 1013.13  
मत्स्य धानी  
मछली टोकरी 677.9  
मत्स्य पालन  
मत्स्य पालन 555.7 ⇨  
मत्स्य पुराण  
पुराण सूची 740.17  
मत्स्य बेड़ा  
मछुआरी बेड़ा 1072.31  
मत्स्य मांस  
मत्स्य मांस 206.24 ⇨  
मत्स्य रंक  
मछरंगा 126.62  
मत्स्य राज  
रोहू 125.11

मत्स्य राजकुमारी  
उत्तरा 771.43  
मत्स्य वैधनी  
मत्स्य आखेटः बंसी 252.18  
मत्स्य शल्क  
मत्स्य शल्क 134.18 ⇨  
मत्स्यशालय  
मत्स्य कुंड 603.11  
मत्स्योदरी  
सत्यवती 771.95  
मत्स्योदरीय  
वेद व्यास 789.21  
मथन  
उत्पीडन 391.10  
मंथन 554.12  
वध 251.3  
मथनक  
मंथन कर्ता 554.27  
मथना  
खोज में भटकना 336.18  
घोटना 540.11  
मंथन करना 554.21  
मंथनः दंड 554.14  
रींदना 541.8  
विचार करना 330.13  
विमर्श करना 330.16  
मथनाघल  
मंदर पर्वत 17.12  
मथनिया  
मंथन कर्ता 554.27  
मथनः दंड 554.14  
मथनी  
मंथनः दंड 554.14  
मथवारी  
मेहराब 611.29  
मथा [मथी]  
मंथित 554.26  
मसला [मसली] 541.12  
मथाई  
मसलाई 541.2  
मथानी  
मंथनः दंड 554.14  
मंथनः पात्र 554.13  
मथित  
उत्पीडित 391.28  
मंथित 554.26  
मसला [मसली] 541.12  
मथिता  
उत्पीडक 391.29  
मंथन कर्ता 554.27  
मथी  
ईंद्र वज्र 928.8  
मंथनः दंड 554.14  
मथुरा  
शत्रुजः राजधानी 770.62  
मथुरा माथ  
अष्ट कृष्ण सूची 771.3

मथुराः राजा  
शूरसेन 771.92  
मथुरेश  
कृष्ण 771.1  
मथुल  
मस्तूल 1073.11  
स्तंभ 607.7  
मथ  
आनंद 382.1  
उन्माद 354.4  
मद 211.1 ⇨  
मद्य 209.1  
मन तरंग 351.6  
लेखा शीर्षक 632.4  
बहिष्कार सूची 812.5  
मथ उतरना  
मद उतरना 211.11 ⇨  
मथकर  
मादक 211.12  
मथकरी  
मस्त हाथी 127.41  
मथकल  
उन्मत्त 354.22  
मथधुति  
मद झुम 211.2  
मथ झुम  
मद झुम 211.2 ⇨  
मथद  
रसद 656.10  
वित्तीय सहायता 633.2  
सहयोग 700.1  
सहायक सेना 932.5  
सहायता 700.11  
मथदगार  
संरक्षणपूर्ण सहायक 700.27  
सहायता दाता 700.25  
मदन  
कामदेव 773.12  
काम वासना 237.5  
मादक 211.12  
मदनक  
मौलसिरी 13.20  
मदन कलह  
प्रणय कलह 374.3  
मदन कामिनी  
रति 774.78  
मदन गोपाल  
कृष्ण 771.1  
मदन प्रयोदशी  
वसंतोत्सव 57.24  
मदन महोत्सव  
कामोत्सव 773.20  
मदन मोहन  
अष्ट कृष्ण सूची 771.3  
कृष्ण 771.1  
मदन शलाका  
कोयल 126.21  
मैना 126.67

## मदना

### मदना

कस्तूरी 274.15  
मैना 126.67  
मदनारि  
शिव 787.1  
मदनालय  
भग 152.13  
मदनोत्सव  
कामोत्सव 773.20  
दुलहँडी 57.32  
मदपति  
इंद्र 773.5  
मद पीनक  
मद पीनक 211.3 ⇌  
मदपूर्ण  
मदोन्मत्त 211.15  
मदप्रभ  
मादक 211.12  
मद प्रभाव होना  
मद प्रभाव होना 211.9 ⇌  
मदक्रान्त  
दक्रनाई 253.12  
मदकृन्त  
दक्रनाया [दक्रनाई] 253.38  
मदभरा [मदभरी]  
अलमस्त 382.23  
मदोन्मत्त 211.15  
मादक 211.12  
युवा 231.12  
मदभस्त  
उन्मत्त 354.22  
दर्पी 858.13  
मदभस्त  
उन्मत्त 354.22  
मदोन्मत्त 211.15  
मदभस्त चाल  
गजगामिता 1084.4  
मदभस्ती  
मद 211.1  
मदमाता [मदमाती]  
अलमस्त 382.23  
मदोन्मत्त 211.15  
मादक 211.12  
युवा 231.12  
मदमाती चाल  
गजगामिता 1084.4  
मद में  
लेखे में 632.40  
मदयित्नु  
कामदेव 773.12  
मदर  
मदर 744.30 ⇌  
मदर (औं)  
मदर 744.30  
मदर मैरी (औं)  
मरियम 791.19  
मदरस्ता  
इसलामी धार्मिक पाठशाला 742.3

शिक्षालय 321.9

मदर सुपीरियर (औं)

मदर 744.30

मदराग

कामदेव 773.12

मदव्य

मदव्य 212.1 ⇌

मदव्यासक्त

मदव्यासक्त 212.11 ⇌

मद सेवन

मद सेवन 211.8 ⇌

मद सेवन करना

मद सेवन करना 211.8 ⇌

मद सेवी

मद सेवी 211.13 ⇌

मद हरण

निर्मदीकरण 211.7

मदहीन

अमदोन्मत्त 211.16

मदहृत

निर्मदीकृत 211.17

मदहोरा

उगमगाता [उगमगाती] 1084.48

मदोन्मत्त 211.15

मदहोशी

उगमगाहट 1084.11

मद 211.1

मदांध

दर्पी 858.13

मदोन्मत्त 211.15

मदांबर

ऐरावत 780.5

मस्त हाथी 127.41

मदातंक

हँगओवर 211.4

मदापनय

निर्मदीकरण 211.7

मदापनीत

निर्मदीकृत 211.17

मदार

अक्ष दंड 1077.12

आधार 596.1

छली 827.24

पृथ्वी. अक्ष 10.9

मस्त हाथी 127.41

राशिचक्र 4.4

लक्रंगा 811.8

वृत्त (चक्र) 972.1

व्यापिचारी 806.10

मदारी

बाज़ीगर 473.18

मदारी 473.23 ⇌

मदारी: जानवर

मदारी: जानवर 473.24 ⇌

मदालसा

गंधर्व: स्त्री सूची 778.8

मदासक्त

मदासक्त 211.14 ⇌

मद्यासक्त 209.44

मद्यासक्ति

मद्यपता 209.26

मदिर

मादक 211.12

मदिरता

मादकता 211.5

मदिरल

मादक 211.12

मदिरल (प्र)

कोडियल 176.14

मदिरा

अंगूर. मद्य 209.4

मदिरा 209.12 ⇌

वाइन 209.15

मदिरा (दे.)

मद्य 209.1

मदिरा पान

मद्यपान 209.21

मदिरा प्रेम

मद्य रसिकता 209.25

मदिरा प्रेमी

मद्य रसिक 209.43

मदिरालय

मद्यशाला 209.36

मदिरा शाला

मद्यशाला 209.36

मदिरोन्मत्त

मदोन्मत्त 211.15

मदोत्कट

मस्त हाथी 127.41

मदोना

मरियम 791.19

मदोन्मत्त

दर्पी 858.13

मदोन्मत्त 211.15 ⇌

मदोन्मत्त होना

मदोन्मत्त होना 211.10 ⇌

मदोन्माद

मद 211.1

मदोन्मादक

मादक 211.12

मदोधि

मंदोदरी 784.26

मद्गु

पनडुब्बा 126.48

मद्गुर प्रिया

सिंघाड़ा मछली 125.14

मद

अधोरेखा 968.7

विभाग 937.3

शीर्षक. अधोरेखा 968.9

मदम

मध्यमीय 996.6

मदा

शीर्षक: अधोरेखा 968.9

मदाह

प्रशंसक 841.31

### मदे

अंदर 999.17

लेखे मे 632.40

मदे नज़र

विद्याराधीन 330.21

मदम

अतेजस्वी 839.10

अप्रबल 488.14

अबलिष्ठ 159.12

अस्पष्ट 823.11

कुठित 270.24

क्षमताहीन 488.15

मुँघला [मुँघली] 286.17

विद्यर्ण 291.18

स्फूर्तिहीन 492.14

मदम पढ़ना

मुँघलाना 286.13

मदमपन

अस्पष्टता 823.1

मदम रंग

विद्यर्ण रंग 289.24

मद्विम

मद 1045.10

मद्य

मदिरा 209.12

मद्य 209.1 ⇌

मद्य आसवन

मद्य आसवन 82.2 ⇌

मद्य आसवन करना

मद्य आसवन करना 82.6 ⇌

मद्य आसवन शाला

मद्य आसवन शाला 82.3 ⇌

मद्य उपाहार

मद्य उपाहार 200.4 ⇌

मद्यकक्ष

मद्यकक्ष 209.35 ⇌

मद्य कुंभ

मद्य कुंभ 209.37 ⇌

मद्य घट

मद्य कुंभ 209.37

मद्य तस्कर

मद्य तस्कर 864.40 ⇌

मद्यत्याग

मद्यत्याग 209.27 ⇌

मद्य दाता

मद्य दाता 209.32 ⇌

मद्य निर्माता

मद्य निर्माता 209.29 ⇌

मद्य निषेध

मद्य निषेध 209.28 ⇌

मद्यप

मद्यपायी 209.42

मद्यासक्त 209.44

मद्यपता

मद्यपता 209.26 ⇌

मद्यपान

अधर्म: गुण सूची 773.34

मद्यपान 209.21 ⇌

मद्यपान उत्सव	मन्नास	भ्रमर 122.33	मधुर
मद्यपान उत्सव 209.22 ⇨	तमिल नाडु. राजधानी 28.35	मद्यपायी 209.42	प्रिय 369.7
मद्यपान करना	मन्नास (बोलचाल)	मधुपर्क	प्रेमपात्र 369.4
मद्यपान करना 209.40 ⇨	तमिल नाडु 28.34	मधुपर्क 750.11 ⇨	मधुर ध्वनिक 294.27
मद्यपान गोष्ठी	दक्षिण भारत 28.4	मधु पर्क	मीठा [मीठी] 280.30
मद्यपान गोष्ठी 209.23 ⇨	मन्नासी (बोलचाल)	बोडशोपचार सूची 750.4	रसपूर्ण 84.17
मद्यपान पात्र	दक्षिण भारतीय 28.78	मधु पात्र	श्रुतिप्रिय 294.25
मद्यपान पात्र 209.38 ⇨	मध	मद्यपान पात्र 209.38	बद स्वाद सूची 275.3
मद्यपायी	मध्य 996 1	मधुपान	सुंदर 157
मद्यपायी 209.42 ⇨	मधु	मद्यपान 209.21	सुरीला [सुरीली] 459.38
मद्य प्रेमी	असुर सूची 783.8	मधुपुष्प	सौमनस्यपूर्ण 705.30
मद्य रसिक 209.43	पुष्प रस 84.6	अशोक 13.4	मधुर [मधुरा]
मद्यबाला	मद्य 209 1	नीलसिरी 13.20	माधुर्यपूर्ण 157.9
साक्षी बाला 209.33	मधु 280.9 ⇨	शिरीष 13.21	मधुरई
मद्यनास सेवी	मधुकैठ	मधु प्रणय	रूप माधुर्य 157.4
मद्यनास सेवी 205 12 ⇨	कोयल 126 21	मद्य रसिकता 209 25	मधुर कंठ
मद्य माप	मधुक	मधुप्रिय	मधुर स्वर 299.8
पैग 209.39	महुआ मद्य 209.13	अकूर 771.33	मधुर कंठिनी
मद्य मिश्रित पेय	मधुकक्ष	बलराम 771 74	मिष्टभाषिणी 431.9
काकटेल 209 6	मधुकक्ष 802.31 ⇨	मधुबाला	मधुर कंठी
मद्य रसिक	मधुकर	साक्षी बाला 209.33	मिष्टभाषी 431.8
मद्य रसिक 209 43 ⇨	भ्रमर 122 33	मधुभक्षी	मधुर करना
मद्य रसिकता	मधुकारी	शाकरखोरा 126.71	मीठा करना 280.28
मद्य रसिकता 209 25 ⇨	मधुमक्खी 122.39	मधुमक्खी	मधुरण
मद्यल (प्र)	मधु कैटभ	कीट सूची 122 12	मधुरण 280 2 ⇨
अल्कोहल 209 2	असुरादि जोड़ी सूची 783.4	मधुमक्खी 122.39 ⇨	मधुरता
मद्य विक्रय	मधुकैटभारि	मधुमक्खी छत्ता	मिठास 280 1
मद्य विक्रय 209 30 ⇨	कृष्ण 771 1	मधुमक्खी छत्ता 603 5 ⇨	मित्रता 705.1
मद्य विक्रय स्थल	विष्णु 768 1	मधुमक्खी पालन	मिष्ट स्वभाव 837.3
मद्य विक्रय स्थल 209.34 ⇨	मधुकाशा	मधुमक्खी पालन 555.8 ⇨	रूप माधुर्य 157 ;
मद्य विक्रेता	मधुमक्खी छत्ता 603 5	मधुमती	सुरीलापन 459 34
मद्य विक्रेता 209 31 ⇨	मधुगंध	दैत्य स्त्री सूची 783 21	सौमनस्य 705.18
मद्य विषयक	नीलसिरी 13 20	मधुमय	मधुरतापूर्ण
मद्यीय 209.41	मधु घट	माधुर्यपूर्ण 157 9	सौमनस्यपूर्ण 705.30
मद्यशाला	मद्य कुंभ 209.37	मीठा [मीठी] 280.30	मधुर ध्वनिक
मद्य विक्रय स्थल 209.34	मधुघरक	मधु मल्लिका	मधुर ध्वनिक 294.27 ⇨
मद्यशाला 209 36 ⇨	मधुमक्खी छत्ता 603 5	मालती 14 21	मधुर पेय
मद्य संधान	मधुच्छटा	मधु माधव	मधुर पेय 208.4 ⇨
मद्य आसवन 82 2	मोर कलगी 140 7	वसंत काल 52 1	मधुर भाषण
मद्यसार	मधु जंभीरी	मधुमान [मधुमती]	मिष्ट भाषण 431 3
अल्कोहल 209 2	सतरा 190 34	प्रिय 369 7	मधुरभाषिणी
मद्य सेवन	मधुज	माधुर्यपूर्ण 157 9	मिष्टभाषिणी 431.9
मद्यपान 209.21	मोम 110.22	मीठा [मीठी] 280.30	मधुरभाषी
मद्य सेवी	मधुजा	मधु मालती	मिष्टभाषी 431 8
मद्यपायी 209 42	पृथ्वी 9 1	मालती 14 21	मधुरव्य
मद्यामोह	मिसरी 280 19	मधु मास	मधुरव्य 280 11 ⇨
नीलसिरी 13 20	मधुजित	घैत्र 43 7	मधुरव्य (प्र)
मद्यारान	विष्णु 768.1	मधुमास	रत्नकोस 179.10
मद्य उपाहार 200 4	मधु द्रुम	मधुमास 800.34 ⇨	मधुर संबंध
मद्यारसक	आम वृक्ष 13 5	मधु मास	विवाह संबंध 724 1
मद्यारसक 209.44 ⇨	मधु श्रेणी	वसंत काल 52.1	मधुरसा
मद्यारहल (प्र)	विष्णु 768.1	मधुमेह	ताड़ 13.8
अल्कोहल 209.2	मधु धूलि	मधुमेह 163.34 ⇨	मधुर स्वर
मद्यीय	ईश शर्करा 280.22	मधु बन्दी	मधुर स्वर 299.8 ⇨
मद्यीय 209.41 ⇨	खीर 280.13	मुलेठी 281 27	मधुर स्वरिय
मद्योन्मत्त	मधुप	मधु यामिनी	मधुर स्वरिय 299.25 ⇨
मद्योन्मत्त 211.15	उद्वेग 771.44	मधु यामिनी 800.33 ⇨	मधुर स्वाद
	देवता 772.1		मिठास 280.1

## मधुरा

### मधुरा

पालक 189.26  
 प्रेमपात्रा 369.5  
 प्रेमिका 368.3  
 मुलेठी 281.27  
 शत्रुघ्नः राजधानी 770.62  
 सीफ 281.36  
**मधुराम्ल**  
 खटमिट्ठा [खटमिट्ठी] 277.20  
**मधुराम्लता**  
 खटमिट्ठापन 277.2  
**मधुरायन**  
 मधुमास 800.34  
**मधुरिका**  
 सीफ 281.36  
**मधुरिम**  
 भीठा [भीठी] 280.30  
**मधुरिमा**  
 काव्य गुण सूची 453.4  
 मिठास 280.1  
 रूप माधुर्य 157.4  
**मधुरीकरण**  
 मधुरण 280.2  
**मधुरोस (प्र)**  
 ग्लूकोस 179.10  
**मधुल**  
 महुआ 190.31  
 माधुर्यपूर्ण 157.9  
**मधुलिका**  
 राई 196.19  
**मधुवन**  
 महुआरी 12.25  
 शत्रुघ्न राज्य 770.81  
**मधु वल्ली**  
 मुलेठी 281.27  
**मधुशय्या**  
 मधुशय्या 802.17 ⇨  
**मधुशाला**  
 मधुशाला 209.36  
**मधुष्ठील**  
 महुआ 190.31  
**मधुसख**  
 कामदेव 773.12  
**मधु सूवनी**  
 पालक 189.26  
**मधुहा**  
 विष्णु 768.1  
**मधुक**  
 प्रमर 122.33  
 महुआ 190.31  
**मधुकर्री**  
 पका भिक्षात्र 642.8  
**मधुस्त्व**  
 वसंतोत्सव 57.24  
**मधुरिका**  
 स्तोत्रा 189.37  
**मधुलिका**  
 मुलेठी 281.27

### मधुली

आम वृक्ष 13.5  
 गेहूँ 187.8  
**मध्यादिन**  
 मध्याह्न 47.9  
**मध्य**  
 अंतर्भाग 999.4  
 अर्ध बिंदु 971.3  
 कटि 147.7  
 केन्द्र बिंदु 971.1  
 ताल लय प्रकार सूची 458.38  
 मध्य 996.1 ⇨  
 मध्यक राशीय 947.26  
 मध्य भाग 996.3  
 मध्यम 978.6  
 मध्यमीय 996.6  
 मध्यवर्ती 996.7  
 स्वर लय सूची 465.13  
**मध्य अवस्था**  
 अधेड़ता 232.1  
**मध्य आकाश**  
 भुव 773.39  
**मध्य उपरांत रात**  
 मध्य उपरांत रात 48.12 ⇨  
**मध्यक**  
 मध्यक 1002.9 ⇨  
 मध्यक राशि 947.12  
**मध्य कण**  
 मीसोन 78.19  
**मध्यक राशि**  
 मध्यक राशि 947.12 ⇨  
**मध्यक राशीय**  
 मध्यक राशीय 947.26 ⇨  
**मध्य काया**  
 शरीर मध्य भाग 139.5  
**मध्य काल**  
 अंतरिम काल 60.3  
 मध्य काल 76.8 ⇨  
**मध्यगत**  
 अतर्कित 1002.26  
 गङ्गा [गङ्गी] 1016.46  
 घुसा [घुसी] 1094.29  
 प्रविष्ट 1094.24  
 मध्यवर्ती 996.7  
**मध्य डैक**  
 अगला डैक 1073.28  
**मध्य तरंग**  
 मीडियम वेव 1040.10  
**मध्य तल**  
 मध्य तल 985.2 ⇨  
**मध्य तलीय**  
 मध्य तलीय 985.15 ⇨  
**मध्य देश**  
 मध्य स्थान 996.4  
**मध्य पक्ष**  
 विवाह घटक 801.1  
**मध्य प्रदेश**  
 मध्य प्रदेश 28.58 ⇨

### मध्य प्रदेशः राजधानी

मध्य प्रदेशः राजधानी 28.57 ⇨  
**मध्य बिंदु**  
 अर्ध बिंदु 971.3  
 केन्द्र बिंदु 971.1  
 मध्यक राशि 947.12  
 मध्य बिंदु 996.2 ⇨  
**मध्य बिंदु पर**  
 मध्य बिंदु पर 996.8 ⇨  
**मध्य भाग**  
 मध्य भाग 996.3 ⇨  
 मध्य स्थान 996.4  
**मध्यम**  
 कटि 147.7  
 मझोला साइज़ 961.12  
 मध्य बिंदु 996.2  
 मध्यम 978.6 ⇨  
 मध्यम राशि 947.13  
 मध्यम राशीय 947.27  
 मध्यम स्तरीय 313.18  
 मध्यम स्वर 459.10  
 मध्य मार्गी 344.9  
 मध्यमीय 996.6  
 मध्यवर्ती 996.7  
 मध्यवित्त 625.8  
 राग रागिनी सूची 457.24  
 सप्तक स्वर सूची 459.6  
**मध्यमक**  
 मध्यक 1002.9  
 मध्य भाग 996.3  
**मध्य मणि**  
 मुख्य मनका 228.49  
**मध्यमता**  
 मध्यमता 978.2 ⇨  
**मध्यम दूरी शीट**  
 मीडियम शीट 472.19  
**मध्यम परत**  
 भू प्रावार 9.10  
**मध्यम पांडव**  
 अर्जुन 771.36  
**मध्यम पुरुष**  
 तुम 316.17  
**मध्यम पुरुष सर्वनाम**  
 सर्वनाम सूची 425.17  
**मध्यम यान**  
 त्रियान सूची 737.18  
 बौद्ध संप्रदाय सूची 737.15  
**मध्यम राशि**  
 मध्यम राशि 947.13 ⇨  
**मध्यम राशीय**  
 मध्यम राशीय 947.27 ⇨  
**मध्यम वर्ग**  
 मध्यम वर्ग 688.10 ⇨  
**मध्यम स्तरीय**  
 मध्यम स्तरीय 313.18 ⇨  
**मध्यम स्तरीयता**  
 मध्यम स्तरीयता 313.9 ⇨

### मध्यम स्वर

मध्यम स्वर 459.10 ⇨  
**मध्यमा**  
 मध्यमिका 150.17  
**मध्य मान**  
 मध्यक राशि 947.12  
**मध्य मार्गी**  
 मध्य मार्गी 344.9 ⇨  
**मध्यमाहरण**  
 वर्गन 955.9  
**मध्यमिका**  
 मध्यमिका 150.17 ⇨  
**मध्यमीय**  
 केद्रीय 971.19  
 मध्यमीय 996.6 ⇨  
**मध्य में**  
 अंदर 999.17  
 कार्य मध्य मे 996.9  
 मध्य बिंदु पर 996.8  
**मध्य युग**  
 मध्य काल 76.8  
**मध्य राशि**  
 मध्य राशि 48.11 ⇨  
**मध्य राशि**  
 मध्यक राशि 947.12  
**मध्ययय**  
 अधेड़ 232.9  
**मध्य वय**  
 अधेड़ता 232.1  
**मध्यययस्क**  
 अधेड़ 232.9  
**मध्य वर्ग**  
 मध्यम वर्ग 688.10  
**मध्य वर्गीय**  
 मध्यवित्त 625.8  
**मध्य वर्गीयता**  
 मध्यवित्तता 625.4  
**मध्यवर्ती**  
 आंतरिक 999.12  
 मध्य तलीय 985.15  
 मध्यवर्ती 996.7 ⇨  
**मध्यवर्ती कक्ष**  
 गर्भगृह 745.44  
**मध्यवर्ती काल**  
 अंतरिम काल 60.3  
**मध्यवर्ती भाग**  
 अंतर्क्षेत्र 34.2  
**मध्यवर्ती राज्य**  
 मध्यवर्ती राज्य 881.7 ⇨  
**मध्यवित्त**  
 मध्यवित्त 625.8 ⇨  
**मध्यवित्तता**  
 मध्यवित्तता 625.4 ⇨  
**मध्य विज्ञान**  
 कार्य अंतराल 494.4  
**मध्य वीथिका**  
 मध्य वीथिका 1063.52 ⇨

मध्य कृत	मध्यिञ्ज	मनकामना	मनडे (डी)
नाभिक 129.4	मध्यक 1002.9	मनोवांछा 359.4	सोमवार 46.4
मध्य सप्ताक	मध्यीय	मनका माला	मन डोलना
सप्तक सूची 459.4	मध्यवर्ती 996.7	मनका माला 228.52 ⇨	लुब्ध होना 359.15
मध्य स्तर	मध्ये	मन का मासिक	मनतः
मध्य तल 985.2	अंदर 999.17	स्वेच्छित कर्मी 650.22	मनतः 351.9 ⇨
मध्य स्तरीय	लेखे में 632.40	मन का मीत	मन तरंग
मध्य तलीय 985.15	मध्योष्ठ	घनिष्ठ मित्र 704.14	मन तरंग 351.6 ⇨
मध्यस्थ	मध्योष्ठ 229.27 ⇨	पुरुष मित्र 705.2	मन देना
दलाल 659.2	मध्योण (प्र)	मन का मील	प्रेम करना 368.13
पक्षपातहीन 887.10	मीसोन 78.19	वैमनस्य 706.10	मनधारा
बिचौलिया 877.10	मध्यरि	मन की उकान	स्मृति प्रवाह 352.13
मध्यवर्ती 996.7	कृष्ण 771.1	विलक्षण दर्शन 342.8	मनन
विवाद्यक पंच 877.7	मध्यायास	मन की कुलौष	ज्ञान ध्यान 755.1
मध्यस्थता	आम वृक्ष 13.5	सहसा कल्पना 308.3	दार्शनिक कर्म 760.2
पक्षपातहीनता 887.2	मधियज्ञा	मन की गौठ	ध्यानन 331.2
बीच बचाव 877.9	मद्य 209.1	कुटा ग्रंथि 352.6	विचारण 330.5
मध्यस्थ निर्णय	मनः	वैमनस्य 706.10	मनन चिंतन
विवाद्यन पचाट 877.8	मानसिक 351.8	मन की मन में रहना	ध्यानन 331.2
मध्य स्थान	मन	इच्छा पूरी न होना 362.3	मनन परिणाम
मध्य स्थान 33.6 ⇨	इच्छा 359.1	मन की भिटना	मत 343.1
मध्य स्थान 996.4 ⇨	कल्पना 308.1	इच्छा पूरी होना 361.7	मन न भरना
मध्यस्थित	मन 351.2 ⇨	मन की मीज	तृप्त न होना 362.4
केंद्रवर्ती 971.20	मन 962.48 ⇨	अल्मस्ती 382.7	मन न लगना
मध्यवर्ती 996.7	विद्यार 330.1	मनकूला जायदाद	अरोघक लगना 401.6
मध्यांतर	विवेक 301.7	घल सपत्ति 624.9	मननीय
कार्य अतराल 494.4	मन (दे.)	मनकूहा	विचारणीय 330.20
मध्यांतर काल	अंतरिंद्रिय 268.4	पत्नी 803.6	मन परिवर्तन
कार्य अतराल 494.4	स्वभाव 836.4	विवाहिता 799.65	हृदय परिवर्तन 344.4
मध्या	मन अवस्था	मन केंद्रीकरण	मनपसंद
मध्यमिका 150.17	चित्त अवस्था 355.1	ध्यानन 331.2	पसंद 400.11
मध्या नायिका 456.9	मनः आंतरिक खंड	मनगडंत	मन प्रभावन
मध्याकार	अवचेतन मन 352.3	कपोल कल्पित 308.19	पट्टी पढाई 332.9
मध्यम 978.6	मनई	काल्पनिक 308.18	मन प्रवाह
मध्याकारता	मानव 128.1	तथाहीन 821.22	स्मृति प्रवाह 352.13
मध्यमता 978.2	व्यक्ति 689.1	मनगडंत बात	मन प्रशामक
मध्या नायिका	मन एकाग्र करना	गप 440.7	प्रशामक 372.11
मध्या नायिका 456.9 ⇨	ध्यान करना 331.8	मन चलना	मन बहलना
मध्यायकारा	मनकना	इच्छा होना 359.10	शोक विस्मृत होना 393.16
कार्य अतराल 494.4	संचलित होना 1037.13	लुब्ध होना 359.15	मन बहलाक
मध्यायतलता	मन करना	मनचला [मनचली]	मनोरंजनपूर्ण 469.11
नतोदरता 989.1	इच्छा होना 359.10	अलमस्त 382.23	मन बहलाना
मध्यावधि चुनाव	मनका	इच्छुक 359.21	मनोरंजन करना 469.9
मध्यावधि निर्धवान 888.4	कुमकुमा 571.48	मनचाहा [मनचाही]	शोक विस्मृत करना 393.17
मध्यावधि निर्धवान	मनका 228.48 ⇨	पसंद 400.11	मन बहलाव
मध्यावधि निर्धवान 988.4 ⇨	मन का	प्रिय 369.7	मनोरंजन 469.1
मध्याह्न	स्वेच्छित 650.21	मनोवाञ्छित 359.27	शोक विस्मरण 393.10
कालचक्र. नाभिसूची 38.5	मनका (दे.)	स्वेच्छित 650.21	मन बहलावः बातचीत
मध्याह्न 47.9 ⇨	नगीना 228.51	मनचाही चीज	गपशप 435.6
मध्याह्न आहार	मणि 96.15	प्रिय वस्तु 369.2	मन बुद्धि अहंकार
मध्याह्न आहार 199.3 ⇨	मन का खोट	मनचाहे	अंतरिंद्रिय 268.4
मध्याह्न काल	दुरारायता 818.4	स्वेच्छापूर्वक 650.30	मन बुद्धि चित्त अहंकार
त्रिसंध्या सूची 47.3	मन का खोटा	मनधीता [मनधीती]	अंतरिंद्रिय 268.4
मध्याह्नः पूर्व काल	दुराराय 818.9	पसंद 400.11	मन भंजन
पूर्वाह्न 47.7	मन का चोर	मनोवाञ्छित 359.27	हृदय भंजन 391.17
मध्याह्न	दुरारायता 818.4	मन दूटना	मन भरना
मध्य वीथिका 1063.52	वैमनस्य 706.10	मित्रता दूटना 705.24	तृप्त होना 361.11

## मनभाता [मनभाती]

मनभाता [मनभाती]  
पसंद 400.11

मन भाता  
प्रिय होना 369.8  
मनभाया [मनभाई]  
मनोवाचित 359.27

मनभावन  
सुंदर 157.7  
मनभावम [मनभावनी]  
प्रिय 369.7  
मनभावना [मनभावनी]  
पसंद 400.11

मनभावनी  
प्रेमपात्रा 369.5  
मन भविर में बैठाना  
प्रेम करना 368.13

मनमधन  
कामदेव 773.12  
मन मरणी से  
स्वेच्छाधारितः 809.11

मन मरना  
उत्साह भंग होना 492.8  
खिन्न होना 380.8

मन मर्णी  
मनोवांछा 359.4  
मनमर्णी  
स्वेच्छापूर्णता 650.6

मनमर्णी का  
स्वेच्छित 650.21  
मनमस्त  
अलमस्त 382.23

मनमस्ती  
अलमस्ती 382.7  
मनमानता [मनमानती]  
पसंद 400.11

स्वेच्छित 650.21  
मनमाना [मनमाननी]  
स्वेच्छित 650.21  
मनमाननी  
असंयम 809.3

स्वेच्छाधार 809.1  
स्वेच्छापूर्णता 650.6  
हेकड़ी 734.10

मनमाननी घरजानी  
स्वेच्छित कर्म 650.7  
मनमाननी से  
स्वेच्छाधारितः 809.11

मन मारना  
इंद्रिय निग्रह करना 364.7  
मन मारे  
अनुद्यततः 492.20

मन मिलना  
प्रेम होना 368.12  
मित्र बनना 705.19  
मनमीत  
घनिष्ठ मित्र 704.14

पुरुष मित्र 705.2

मनमुटाव  
एकता भंग 699.2  
वैमनस्य 706.10

मन में आना  
इच्छा होना 359.10  
कल्पना में आना 308.11

मन में बढा लेना  
न कहना 429.12

मन मोदक  
दिवा स्वप्न 267.2  
मनोकल्पना 308.5  
मनमोदी  
आनंदशील 382.19

मन मोहक  
कलापूर्ण 402.3  
रोधक 400.12  
सम्मोहनपूर्ण 367.7  
सुंदर 157.7

मन मोहकता  
सुंदरता 157.1  
मनमोहन  
कृष्ण 771.1

प्रिय 369.7  
मनमोहन [मनमोहिनी]  
सम्मोहनपूर्ण 367.7  
सुंदर 157.7

मनमोहिनी  
प्रेमपात्रा 369.5  
मनमीजी \*  
अलमस्त 382.23

मनमीजीपन  
अलमस्ती 382.7  
मन रोकना  
इंद्रिय निग्रह करना 364.7

मन लगाना  
ध्यान करना 331.8  
प्रेम करना 368.13  
मनोरंजन करना 469.9

रुचि लेना 400.8  
मनवाचित  
मनोवाचित 359.27

मनवाचित कार्य  
स्वेच्छित कर्म 650.7  
मन विकेंद्रीकरण  
ध्यान भंग 331.4

मन वृत्ति  
भाव 358.1  
मनश्चक्षु  
ज्ञान चक्षु 305.2

मनश्चिकित्सा  
मनो चिकित्सा 354.16  
मनश्चेतना  
चेतन मन 352.2

चेतना 263.4  
मनश्शास्त्र  
मनोविज्ञान 352.1  
मनसब  
उपाधि 856.1

जागीर मनसबी 553.18  
पदवी 652.1

मनसबदार  
बड़ा जमींदार 553.15  
सामंत 882.32

मनसालु  
भारत उपमहाद्वीपः पर्वत सूची 17.1  
मनसा  
ध्यानपूर्वक 331.16

नाग स्त्री सूची 778.24  
बुद्धि 301.1  
मनतः 351.9  
मनसा 774.62 ⇨

मनसा देवी  
मनसा 774.62  
मन साक होना  
सदाशय होना 817.6

मनसा बाधा कर्मणा  
क्षमतापूर्वक 487.33  
मनसिजा  
कामदेव 773.12

चंद्रमा 8.2  
मनसिजा  
मनसिजा 352.5 ⇨

मनसिजा (म्र)  
मनसिजा 352.5  
मनसिषाय  
मनसिजा 352.5

मनसुखा  
अलमस्त 382.23  
मनसुब  
उद्दिष्ट 508.8

मनसुबा  
दिवा स्वप्न 267.2  
प्रयोजन 508.1  
योजना 520.1

मनसुबे बंधना  
दिवा स्वप्न देखना 267.7  
मनसुबेबाध  
कूट युक्ति कर्ता 819.17

मनसुर  
जयी 912.15  
मन से  
मनतः 351.9

मनसोधिकार (भरत)  
काव्य शास्त्र. भाव 358.2  
मनस्कता  
मनोवृत्ति 351.7

स्वभाव 836.4  
मनस्तंत्र  
मनोवृत्ति 351.7  
मनस्ताप  
परधास्ताप 380.4

मनोव्यथा 391.7  
मनस्तुष्टि  
तृप्ति 361.5  
मनस्तुप्ति  
तृप्ति 361.5

मनस्तोष  
संतोष 360.5

मनस्थिता  
बुद्धिमत्ता 301.5  
महानता 839.1  
मनस्वी  
ध्यानी 331.12

विद्वान् व्यक्ति 319.2  
मनस्वी [मनस्विनी]  
बुद्धिमान 301.21  
महान 839.8

स्थिरचित्त 355.6  
मन हटना  
विरक्त होना 368.4  
मनहर  
कलापूर्ण 402.3

सुंदर 157.7  
मनहरता  
कलापूर्णता 402.1

सुंदरता 157.1  
मन हरना  
जादू करना 474.33

मनहीनतः  
यंत्रयतः 1046.32  
मनहुँ  
सादृश्यः उक्ति सूची 309.26

मनहूस  
अकल्याणकारी 711.9  
उदास 380.14  
दुर्भाग्यशाली 260.34

मनहूस घड़ी  
अमंगल काल 797.3  
मनहूस रात  
कालरात्रि 48.9

मनहूसियत  
अकल्याणकारिता 711.2  
मनहूसी  
अकल्याणकारिता 711.2

आशाहीनता 376.1  
उदासी 380.5  
मना  
निषिद्ध 880.12

मना करना  
अनुमति न देना 338.19  
निषिद्ध करना 880.6  
मनाना  
आपत्ति निवारण करना 326.13

उत्सव मनाना 56.7  
तुष्टीकरण करना 374.14  
प्रार्थना करना 350.11  
फुसलाना 374.16

मनाना 374.13 ⇨  
मन्नत मानना 361.9  
सात्पना देना 393.12  
मनाया [मनाई]  
मनाया [मनाई] 374.19 ⇨

मनायी  
मनु पत्नी 788.2



मनाथन	मनुजा	मनु स्मृति	धीक 13.7
मनुहार 374.6	स्त्री 236.3	मनु स्मृति 740.56 ⇨	मनोजयी
मम्रत 361.3	मनुजी	मनुहार	मनोवेग गामी 1044.9
मनाची	स्त्री 236.3	गिङ्गिडाहट 350.8	मनोज्ञ
मनु पत्नी 788.2	मनुजोत्तम	प्रार्थना 350.4	रोचक 400.12
मनाही	महापुरुष 839.0	मनुहार 374.6 ⇨	सुंदर 157.7
अननुमति 338.3	मनु पत्नी	मनुहार करना	मनोतेज
निषेध 880.1	मनु पत्नी 788.2 ⇨	तुष्टीकरण करना 374.14	मनोबल 394.4
मनियार	मनु: बाक	मनाना 374.13	मनोदाह
अल्पलकृत 227.6	जल प्रलय 530.2	मनुहारना	परचात्ताप 380.4
आलोकित 285.45	मनु मानव	मनाना 374.13	मनोदाही
शोभायुक्त 226.11	मानव 128.1	मनुहार नीति	मनोव्यथाकारी 391.27
सुंदर 157.7	मनु मानव (होमोसैपिएंस)	तुष्टीकरण नीति 374.8	मनोधारा
मनिहार	वानर विकास क्रम 127.94	मनद्विय	स्मृति प्रवाह 352.13
घुङ्किहार 228.12	मनु वंश	अतरिद्विय 268.4	मनोनयन
मनिहार [मनिहारी]	मानव जाति 128.2	मनो	मनोनयन 888.21 ⇨
घुङ्किहार 228.12	मनु वंशी	मानसिक 351.8	मनोनयन करना
मनी	मानव 128.1	मनोकल्पना	मनोनीत करना 888.32
वीर्य 130.10	मनु श्रेष्ठ	कल्पना 308.1	मनोनिग्रह
मनीजर	विष्णु 768.1	दिवा स्वप्न 267.2	इंद्रिय निग्रह 384.4
प्रबधक 655.9	मनुष	परिकल्पना 520.5	मनोनिवेश
मनी बैग (अं)	मानव 128.1	मनोकल्पना 308.5 ⇨	ध्यान 331.1
बटुआ 672.9	मनुष्य	मनोकल्पित	मनोनीत
मनी बैल्ट (अं)	मनु संतति 788.3	काल्पनिक 308.18	आरक्षित 660.20
नीली 672.8	मानव 128.1	मनोकाभना	मनोनीत 888.36 ⇨
मनी लॉडरिंग (अं)	मानव जाति 128.2	इच्छा 359.1	मनोनीत करना
काला घन शोधन 865.5	मनुष्य: आदि पुरुष	मनोवाछा 359.4	मनोनीत करना 888.32 ⇨
मनीषा	मनु 788.1	मनोकाभनापूर्ण	मनोनीत पत्नी
इच्छा 359.1	मनुष्य कृत	इच्छापूर्ण 359.18	वधु 801.11
बुद्धि 301.1	मानव रचित 527.19	मनोग	मनोनुकूल
विद्यार 330.1	मनुष्य गंधर्व	मनोवेग गामी 1044.9	मनोवाञ्छित 359.27
मनीषित	मनुष्य गंधर्व 778.10 ⇨	मनोगत	मनोनुभूति
इच्छित 359.19	मनुष्य गण	अनभिव्यक्त 429.19	अनुभूति 263.1
मनोवाञ्छित 359.27	जन्म गण सूची 261.10	मनोगु.त	मनोन्माद
मनीषी	मनुष्यता	अभिव्यक्त 429.19	उन्माद 354.4
ध्यानी 331.12	मानवीयता 733.3	मनोग्रंथि	मनोबल
बुद्धिजीवी 301.22	मनुष्य द्वेषी	कुटा ग्रंथि 352.6	आत्मविश्वास 487.8
विचारक 330.6	मानव द्वेषी 709.10	मनोग्राही [मनोग्राहिणी]	मनोबल 394.4 ⇨
विद्वान 319.8	मनुष्य भक्षी	सम्मोहनपूर्ण 367.7	युद्ध उत्साह 907.3
विद्वान व्यक्ति 319.2	मनुष्य भक्षी 205.7 ⇨	मनोग्राह्य	साहस 394.1
मनीषी [मनीषिणी]	मनुष्य लोक	रोचक 400.12	मनोबलयुक्त
बुद्धिमान 301.21	पृथ्वी 9.1	मनोघारु	मनोबलयुक्त 394.14 ⇨
मनु	मनुष्य हरण	मनोघात 354.3 ⇨	मनोबली
ऋषि मुनि सूची 789.17	अपहरण 862.1	मनो धिक्किस्ता	मनोबलयुक्त 394.14
प्रथम पुरुष: मान्यता सूची 236.14	मनुष्यहारी	मनो धिक्किस्ता 354.16 ⇨	मनोबाधा
मनु 788.1 ⇨	अपहर्ता 862.8	मनोज	मनोबाधा 354.2 ⇨
मनु पत्नी 788.2	मनुष्याकृति सर्प	कामदेव 773.12	मनोबाध्यता
विष्णु 768.1	नाग 778.12	सुंदर 157.7	खल 353.11
वैवस्वत मनु 788.5	मनुष्यीय	मनोजगत	मनोभंग
मनु काल	मानवीय 128.11	मनोजगत 351.1 ⇨	उत्साह भंग 492.2
प्रागितिहासिक काल 78.4	मनुष्योचित	मनोजव	हतारा 376.2
मन्वंतर 40.9	मानवीय 733.14	दुतगामी [दुतगामिनी] 1044.7	मनोभजन
मनुख	मनु संतति	पितासुल्य 720.21	हिम्मत पस्ती 169.7
मानव 128.1	मनु संतति 788.3 ⇨	मनोवेग गामी 1044.9	मनोभाजन
मनुज	मनुस	विष्णु 768.1	मनोभाजन 353.12 ⇨
मानव 128.1	मानव 128.1	शिव 767.1	मनोभाव
मनुजता	मनु सूची	मनोजवा	इच्छा 359.1
मानवीयता 733.3	मनु सूची 788.4 ⇨	अग्नि जिह्वा सूची 106.10	काव्य शास्त्र: भाव 358.2

## मनोभाषना

भाव 358.1  
मनोभाषना  
भाषना 358.13  
मनोभिलाषित  
मनोवाञ्छित 359.27  
मनोभिलाष  
मनोवाञ्छा 359.4  
मनोभिलाषा  
मनोवाञ्छा 359.4  
मनोभ्रंश  
भ्रम 342.1  
मनोविकार 353.1  
मनोमन्थन  
आत्मविचारण 330.9  
दुविधा 501.1  
मनोमय  
मानसिक 351.8  
मनोमय कोश  
आत्मा: आवरण सूची 763.8  
मनोवासिन्य  
वैमनस्य 706.10  
मनोमुग्धकारी  
सम्मोहनपूर्ण 367.7  
मनोवादी  
इच्छागामी 1091.11  
मनोयोग  
अध्यवसाय 489.4  
ध्यान 331.1  
मनोयोग करना  
ध्यान करना 331.8  
मनोयोगहीनता  
ध्यानहीनता 331.3  
मनोयोगी  
अध्यवसायी 489.10  
मनोरंजक  
मनोरंजनपूर्ण 469.11  
रोचक 400.12  
मनोरंजकता  
रोचकता 400.4  
मनोरंजक दृश्य  
मनोरंजक दृश्य 312.7 ⇨  
मनोरंजक बात कहना  
घुटकुलेबाजी करना 385.11  
मनोरंजन  
मनोरंजन 469.1 ⇨  
होबी 469.8  
मनोरंजन कक्ष  
क्रीडाकक्ष 482.3  
मनोरंजन कर  
मनोरंजन कर 647.23 ⇨  
मनोरंजन करना  
मनोरंजन करना 469.9 ⇨  
मनोरंजन कर्म  
मनोरंजन कर्म 469.2 ⇨  
मनोरंजन घर  
क्रीडागृह 482.2  
मनोरंजन पूर्ण  
मनोरंजनपूर्ण 469.11

मनोरंजनपूर्ण  
मनोरंजनपूर्ण 469.11 ⇨  
रोचक 400.12  
मनोरंजनप्रिय  
मनोरंजनप्रिय 469.13 ⇨  
मनोरंजन व्यवसाय  
मनोरंजन व्यवसाय 470.1 ⇨  
मनोरंजनहीन  
अरोचक 401.10  
मनोरंजनहीन  
मनोरंजनहीनता 469.14 ⇨  
मनोरंजनहीनता  
मनोरंजनहीनता 469.3 ⇨  
मनोरंजित  
मनोरंजित 469.12 ⇨  
मनोरचना  
परिकल्पना 520.5  
मनोरथ  
इच्छा 359.1  
प्रयोजन 508.1  
मन्त्रत 361.3  
मनोरथप्रद  
इच्छा पूरक 361.14  
मनोरथ सिद्धि  
इच्छा पूर्ति 361.1  
मनोरथ सृष्टि  
विलक्षण दर्शन 342.8  
मनोरथी  
प्रयोजनार्थी 508.7  
मनोरम  
कलापूर्ण 402.3  
रोचक 400.12  
सम्मोहनपूर्ण 367.7  
मनोरम [मनोरमा]  
सुंदर 157.7  
मनोरमता  
सुंदरता 157.1  
मनोराग  
अनुरक्ति भाव 752.11  
आसक्ति 365.1  
मनोवाञ्छा 359.4  
मनोराज्य  
दिवा स्यन 267.2  
मनोरोग  
पागलपन 354.14  
मनोरोग 354.1 ⇨  
मनोरोग चिकित्सा  
मनो चिकित्सा 354.16  
मनोरोधन  
मनोरंजन कर्म 469.2  
मनोरोध  
मनोबाधा 354.2  
मनोमलय  
तल्लीनता 331.6  
मनोवती  
गंधर्व. स्त्री सूची 778.8  
इष्टमा. सभा 766.14  
मनोबल्लभा  
प्रेमिका 368.3

मनोवाञ्छा  
इच्छा 359.1  
मनोवाञ्छा 359.4 ⇨  
मनोवाञ्छित  
मनोवाञ्छित 359.27 ⇨  
मनोविकार  
भाव 358.1  
मनोरोग 354.1  
मनोविकार 353.1 ⇨  
मनोविकार विज्ञानी  
मनोविरलेषक 354.19  
मनोविकृति  
मनोरोग 354.1  
मनोविज्ञान  
मनोविज्ञान 352.1 ⇨  
मनोविद्या  
मनोविज्ञान 352.1  
मनोविनोद  
मनोरंजन 469.1  
विनोद 385.1  
मनोविरलेषक  
मनोविरलेषक 354.19 ⇨  
मनोविरलेषण  
मनोविरलेषण 354.18 ⇨  
मनोवृत्ति  
मनोवृत्ति 351.7 ⇨  
स्वभाव 836.4  
मनोवृत्तिगतता  
स्वाभाविकता 836.5  
मनोवेग  
सवेदना 393.1  
मनोवेग गानी  
मनोवेग गानी 1044.9 ⇨  
मनोव्यथा  
मनोव्यथा 391.7 ⇨  
मनोव्यथाकारी  
मनोव्यथाकारी 391.27 ⇨  
मनोव्यथा होना  
मनोव्यथा होना 391.19 ⇨  
मनोव्यथित  
मनोव्यथित 391.26 ⇨  
मनोसृष्टि  
कल्पना 308.1  
मनोहत  
उत्साहहीन 492.13  
हताशा 376.6  
मनोहर  
कलापूर्ण 402.3  
रोचक 400.12  
दिष्णु 768.1  
सम्मोहनपूर्ण 367.7  
सुंदर 157.7  
मनोहरता  
कलापूर्णता 402.1  
सुंदरता 157.1  
मनोहारी  
रोचक 400.12  
सुंदर 157.7

मनोहारी [मनोहारिणी]  
सम्मोहनपूर्ण 367.7  
मनोअल  
मनुहार 374.6  
मन्त्रत 361.3  
मनोनीली  
मनुहार 374.6  
मन्त्रत 361.3  
साम नीति 819.4  
मन्त्र  
वृक्ष निर्यास 84.8  
मन्त्रत  
मनुहार 374.6  
मन्त्रत 361.3 ⇨  
मन्त्रत (दे.)  
वर याचना 714.3  
मन्त्रत उतारना  
मन्त्रत उतारना 361.10 ⇨  
मन्त्रत कर्ता  
मन्त्रत कर्ता 361.15 ⇨  
मन्त्रत पूरी करना  
वर देना 714.5  
मन्त्रत पूर्ति  
मन्त्रत पूर्ति 361.4 ⇨  
मन्त्रत मानना  
मन्त्रत मानना 361.9 ⇨  
मन्मथ  
कामदेव 773.12  
पक्ष कामदेव सूची 773.1  
मन्मथ प्रिया  
रति 774.78  
मन्मथ बंधु  
चंद्रमा 8.2  
मन्मथालय  
आम वृक्ष 13.5  
मन्य  
अभिमानी 858.10  
मन्यु  
असुर 783.6  
शिव 767.1  
शोक 383.1  
मन्वतर  
मन्वतर 40.9 ⇨  
युग 40.1  
मन्वतर: 14  
कल्प 40.6  
मपा [मपी]  
मापित 958.57  
मपाई  
ऐखिक मापन 959.2  
मफ़ररी  
फ़रार कर्म 916.7  
मफ़रर (अँ)  
गुलुबंद 585.5  
साइलेंसर 300.5  
मम  
मेरा [मेरी] 316.27

<b>ममटी</b>	<b>मयकरा</b>	<b>मयूर शिखा</b>	<b>मरगशील</b>
गुमटी 602.5	मद्यपायी 209.42	मोरः कलगी 140.7	नश्वर 38.7
पहरा मीनार 908.7	<b>मयझाना</b>	<b>मयूर स्वर</b>	<b>मरगशीलता</b>
लेवल क्रीसिंग गुमटी 1064.17	मद्यशाला 209.36	बहुज स्वर 459.7	नश्वरता 38.2
<b>ममता</b>	<b>मयः जानाता</b>	<b>मयूरासन</b>	<b>मरगहीनता</b>
आसक्ति 365.1	राषण 784.12	तकू ताऊस 595.10	अमृत्यु 250.1
ममता 721.2 ⇌	<b>मय तनया</b>	<b>मयूरी</b>	<b>मरगतीत</b>
वात्सल्य रस 455.17	मंदोदरी 784.26	मादा मोर 126.69	अनश्वर 37.9
स्नेह 368.10	<b>मय दानव</b>	<b>मयूरेश</b>	<b>मरगतीतता</b>
स्वजन भावना 725.2	मय 783.20	स्कंद 773.50	अनश्वरता 37.3
<b>ममतापूर्ण</b>	स्थपति उपमान सूची 599.3	<b>मरकज</b>	<b>मरगासन्न</b>
ममतापूर्ण 721.13 ⇌	<b>मय दैत्य</b>	केद्र बिंदु 971.1	मरगासन्न 249.27 ⇌
स्वजन भावनापूर्ण 725.6	मय 783.20	केंद्रीय प्रशासन 890.13	<b>मरगासन्न होना</b>
<b>ममतामय [ममतामयी]</b>	<b>मयन</b>	केंद्रीय स्थान 971.5	मरगासन्न होना 249.21 ⇌
ममतापूर्ण 721.13	कामदेव 773.12	राजधानी 620.15	<b>मरणेच्छुक</b>
<b>ममताहीन</b>	<b>मयनोश</b>	<b>मरकजी</b>	मृत्यु इच्छुक 249.28
निर्दय 835.10	मद्यपायी 209.42	अखिल देश स्तरीय 35.7	<b>मरणेषणा</b>
परजन भावनापूर्ण 725.8	<b>मयनोशी</b>	केद्र बिंदु विषयक 971.18	मृत्यु इच्छा 249.12
<b>ममताहीनता</b>	मद्यपान 209.21	केद्रवर्ती 971.20	<b>मरणोन्मुख</b>
निर्दयता 835.2	<b>मयपरस्त</b>	केंद्रीय 971.19	मरगासन्न 249.27
परजन भावना 725.4	मद्यपायी 209.42	<b>मरकजी</b>	<b>मरतबा</b>
<b>ममादेश</b>	मय रसिक 209.43	केंद्रीय सत्ता विषयक 899.23	पदवी 652.1
निर्देश 347.4	<b>मयपरस्ती</b>	<b>मरकजी</b>	प्रतिष्ठा 849.2
<b>ममाना</b>	मद्यपान 209.21	राज्य संघीय 881.33	<b>मरतबान</b>
ममिहाल 601.7	<b>मयक्रोश</b>	<b>मरकजी सरकार</b>	मरतबान 678.11 ⇌
<b>ममिया</b>	मद्य विक्रेता 209.31	केद्र सरकार 890.14	<b>मरतबेदार</b>
ममिया 722.50 ⇌	<b>मय क्रोशी</b>	<b>मरकत</b>	प्रतिष्ठित 849.15
<b>ममियाल</b>	मद्य विक्रय 209.30	पत्रा 96.13	<b>मरता [मरती]</b>
ममिहाल 601.7	<b>मय विद्या</b>	<b>मर कर जी उठना</b>	मरगासन्न 249.27
<b>ममिया ससुर</b>	जाडू 474.2	पुनरुज्जीवित होना 250.14	<b>मरतलिया</b>
मौलसरा 724.18	<b>मयस्तर</b>	<b>मरकरी (अँ)</b>	अपोषण ग्रस्त 179.23
<b>ममिया सास</b>	उपलब्ध 943.9	बुध ग्रह 7.5	अबलिष्ठ 159.12
मौलस 724.19	<b>मयी</b>	<b>मरखना [मरखनी]</b>	स्फुटिहीन 492.14
<b>ममियीरा</b>	पारसी धर्माधिकारी 744.37	प्रहारशील 918.32	<b>मरतलियापम</b>
ममिहाल 601.7	<b>मयुख</b>	<b>मरघट</b>	अबलिष्ठता 159.3
<b>ममिहाल</b>	अग्नि ज्वाला 106.8	श्मशान 254.9	मंदगामिता 1045.4
ममिहाल 601.7 ⇌	कील 1016.8	<b>मरजाद</b>	स्फुटिहीनता 492.3
<b>ममेरा [ममेरी]</b>	दीप्ति 287.16	मर्यादा 808.5	<b>मरह</b>
ममिया 722.50	प्रकाश किरण 288.1	<b>मरजाबा</b>	पुरुष 236.12
<b>मम्मा (अँ)</b>	शूल 925.8	मर्यादा 808.5	योद्धा 934.15
माता 717.7	<b>मयुखी</b>	<b>मरजिया</b>	<b>मरबना</b>
<b>मम्मी (अँ)</b>	शूल 925.8	पनडुब्बा 483.15	मर्दन करना 911.6
प्राचीन सुरक्षित शव 254.3	<b>मयूर</b>	पुनरुज्जीवित 250.21	मसलना 541.6
माता 717.7	मोर 126.68	<b>मरजी</b>	रौंदना 541.8
<b>मयंक</b>	स्कंद वाहन 773.51	अनुमति 337.5	<b>मरदानगी</b>
चंद्रमा 8.2	<b>मयूरकंठी</b>	इच्छा 359.1	वीरता 396.1
<b>मय</b>	मयूर स्तरीय 299.25	स्वीकृति 337.1	साहस 394.1
असुर सूची 783.8	<b>मयूरकेतु</b>	<b>मरजीबा</b>	<b>मरदाना</b>
-मय	स्कंद 773.50	पनडुब्बा 483.15	परिश्रमी 493.9
मरा [मरी] 1004.12	<b>मयूर पंख</b>	पुनरुज्जीवित 250.21	<b>मरवाने कपड़े</b>
<b>मय</b>	मोरछला 85.29	<b>मरजी से</b>	पुरुष परिधान 583.9
मद्य 209.1	मोरपंख 151.7	स्वेच्छाधारितः 809.11	<b>मरदूढ</b>
मय 783.20 ⇌	<b>मयूरपंखी</b>	<b>मरण</b>	अधम 840.4
सहित 1006.2	सतरंगा [सतरंगी] 289.74	मृत्यु 249.1	अप्रयत्नशील 490.9
-मय [-मयी]	<b>मयूर पुच्छ</b>	<b>मरण अशीष</b>	<b>मरन</b>
सहितः प्रत्यय सूची 1006.5	मोरः पूँछ 151.13	मरण अशीष 198.9 ⇌	मृत्यु 249.1
<b>मयकबा</b>	<b>मयूर मुकुट</b>	<b>मरणकारक</b>	<b>मरन सेज</b>
मद्यशाला 209.36	मोर मुकुट 584.15	मृत्युकारी 249.24	मृत्यु शय्या 249.11

## मरना

### मरना

अतीत होना 63.5  
 आत्मबलि देना 754.19  
 पराजित होना 913.3  
 प्रेम करना 368.13  
 मरना 249.18 ⇨  
 म्लान होना 120.7  
 लक्ष्य वेध होना 931.16  
 शोभाहीन होना 226.9  
 हत होना 249.19  
 मरना (बे.)  
 अस्तित्व न रहना 247.4  
 मरना खपना  
 परिश्रम करना 493.6  
 युद्ध में मरना 249.20  
 मरना पचना  
 परिश्रम करना 493.6  
 मरने की इच्छा  
 मृत्यु इच्छा 249.12  
 मरभुक्छा [मरभुक्छी]  
 आहार अभावग्रस्त 627.18  
 मरभुक्छी  
 आहार अभाव 627.3  
 मरमर  
 घरमराहट 297.17  
 मरमराहट 297.37  
 संग मरमर 99.9  
 मरमराहट  
 घरमराहट 297.17  
 मरमराहट 297.37 ⇨  
 मरमरी  
 धिकना [धिकनी] 269.22  
 मर मिटना  
 आत्मबलि देना 754.19  
 प्रेमासक्त होना 368.15  
 मरम्मत  
 जीर्णोद्धार 598.11  
 पिटाई 918.9  
 भवन निर्माण 598.1  
 मरम्मत 538.1 ⇨  
 मरम्मत (बे.)  
 नवीकरण 64.6  
 मरम्मत करना  
 जीर्णोद्धार करना 598.13  
 मरम्मत करना 538.7 ⇨  
 मरम्मत कर्म  
 मरम्मत कर्म 538.2 ⇨  
 मरम्मत कर्मी  
 मरम्मत कर्मी 538.9 ⇨  
 मरम्मत कृत  
 मरम्मत कृत 538.8 ⇨  
 मरम्मत घर  
 मरम्मत घर 538.3 ⇨  
 मरम्मतशुद्धा  
 मरम्मत कृत 538.8  
 मरम्मती  
 मरम्मत कर्मी 538.9

### मरवा

मरुआ 281.26  
 मरसिया  
 मरसिया 452.24 ⇨  
 मृतक गुणगान 253.18  
 मृत्यु गीत 797.9  
 मरसियाकुमानी \  
 मृतक गुणगान 253.18  
 मरहबा  
 पुन 73.5  
 शाबाशी उद्गार सूची 841.40  
 मरहम  
 मरहम 176.21 ⇨  
 मरहम पट्टी  
 मरहम पट्टी 174.17 ⇨  
 मरहला  
 अस्थायी स्थान 618.15  
 गंतव्य स्थान 1100.2  
 मरहून  
 मृत 249.23  
 मृत व्यक्ति उपाधि सूची 856.7  
 मरा [मरी]  
 अप्रबल 488.14  
 उत्साहहीन 492.13  
 गतिहृत 1047.21  
 मृत 249.23  
 शोभाहीन 226.12  
 मराठी  
 भारत: राष्ट्रभाषा सूची 421.4  
 मरापन  
 उत्साहहीनता 492.1  
 मराल  
 कारंडव 126.19  
 घोडा 127.35  
 धिकना [धिकनी] 269.22  
 राजहंस 126.78  
 मरिखंब  
 मलखंब 485.13  
 मरिख  
 निधं 278.3  
 मरियम  
 ईसा: माता 791.11  
 मरियम 791.19 ⇨  
 मरियम चुत  
 ईसा 791.8  
 मरियम स्नान दिवस  
 कैडलमस 57.58  
 मरियल  
 अबलिष्ठ 159.12  
 स्फूर्तिहीन 492.14  
 मरियलपन  
 अबलिष्ठता 159.3  
 स्फूर्तिहीनता 492.3  
 मरी  
 महामारी 163.7  
 मरीधि  
 दामव सूची 783.13  
 दीप्ति 287.18

### प्रकारा किरण 288.1

ब्रह्मा: पुत्र सूची 768.10  
 विष्णु 768.1  
 सप्तर्षि मंडल: ऋषि सूची 3.11  
 सप्तर्षि महाभारत 789.13  
 मरीधिका  
 मृग दर्शन 342.6  
 मरीधिमाली  
 सूर्य 8.1  
 मरीधी  
 सूर्य 8.1  
 मरीज़  
 रोगी 162.3  
 मरी मरी घाल  
 मंद गति 1045.2  
 मरु  
 मरुथल 11.11  
 मरुआ  
 मरुआ 281.26 ⇨  
 मरुत  
 प्राण तत्त्व 245.1  
 मरुत 781.1 ⇨  
 लोकपाल सूची 780.7  
 वानर (मरुत) 781.5  
 वायु 85.1  
 मरुत: पिता  
 मरुत: पिता 781.2 ⇨  
 मरुत: पुत्र  
 हनुमान 781.19  
 मरुत: माता  
 मरुत: माता 781.3 ⇨  
 मरुत्पट  
 पाल 1073.10  
 मरुत्पति  
 इंद्र 773.5  
 मरुत्पथ  
 आकाश 2.1  
 मरुत्सखा  
 अग्नि 106.1  
 मरुत्सुत  
 हनुमान 781.19  
 मरुथल  
 मरुथल 11.11 ⇨  
 मरुथल ज्योति  
 मृग दर्शन 342.6  
 मरुध  
 मरुत 781.1  
 मरुदेश  
 मरुथल 11.11  
 मरुद्भध  
 देवता: विमान 772.14  
 मरुद्वाह  
 धूम 106.19  
 मरुद्भिप  
 ऊँट 127.27  
 मरुद्भीप  
 मरुत्स्वर्ग 11.12

### मरुधर

मरुथल 11.11  
 मरुद्भिप  
 ऊँट 127.27  
 मरुद्भिद  
 मृग दर्शन 342.6  
 मरुद्भि  
 मरुथल 11.11  
 मरु मरीधिका  
 मृग दर्शन 342.6  
 मरुदक  
 मरुआ 281.26  
 मरुत्थल  
 मरुथल 11.11  
 मरुत्स्वर्ग  
 मरुत्स्वर्ग 11.12 ⇨  
 मरे को जिलाना  
 पुनरुज्जीवित करना 250.15  
 मरे बराबर होना  
 मृतप्राय होना 249.22  
 मरोङ  
 अल्बेट 975.10  
 ऐंठन 392.8  
 बटाई 567.9  
 मरोङ 975.11 ⇨  
 मरोका 216.13  
 मरोङन  
 मरोङन 975.12 ⇨  
 मरोङना  
 निचोङना 220.36  
 निष्कर्षित करना 83.11  
 मरोङना 975.22 ⇨  
 मरोका  
 झटकाव 169.3  
 मरोका 216.13 ⇨  
 मरोका [मरोकी]  
 मरोका [मरोकी] 975.30 ⇨  
 मरोकाई  
 मरोङन 975.12  
 मरोकी  
 मरोकी 165.10 ⇨  
 मरुँट  
 बंदर 127.86  
 मरुँटी  
 मरुकी 122.36  
 मादा बंदर 127.87  
 मरुँत  
 पत्रा 96.13  
 मरुँत मणि  
 पत्रा 96.13  
 मरुँरा  
 बारुदी सुरंग 927.23  
 मरुँरी (औं)  
 पारा 94.9  
 मरुँट (औं)  
 विपणक 656.2  
 व्यापारी 657.2

मर्दट नैवी  
मर्दट नैवी 1072.42 ⇨  
मर्दट नैवी (अं)  
मर्दट नैवी 1072.42  
मर्ज  
कुध्यसन 812.7  
दुख 391.1  
रोग 163.1  
मर्जी  
स्वीकृति 337.1  
मर्जी का  
वैकल्पिक 516.4  
मर्जी का मालिक  
स्वेच्छित कर्मी 650.22  
मर्जी से  
स्वेच्छापूर्वक 650.30  
मर्डर (अं)  
हत्या 251.5  
मर्तबा  
आवृत्ति 71.1  
पदवी 652.1  
मर्तबान  
मरतबान 676.11  
मर्त्य  
इहलौकिक 258.13  
नश्वर 38.7  
मर्त्यता  
नश्वरता 38.2  
मर्त्यमुख  
किन्नर 778.1  
मर्त्यलोक  
इहलोक 258.11  
पृथ्वी 9.1  
मर्द  
नर 236.21  
पति 803.5  
पुरुष 236.12  
वीरोधित 396.7  
मर्द औरत  
दंपती 803.4  
विपरीतता: उपमान सूची 310.13  
स्त्री पुरुष 236.1  
मर्दक  
मर्दन कर्ता 911.11  
मारने वाला 251.26  
मर्दन  
अत्याचार 835.3  
उत्पीड़न 391.10  
घुटाई 540.3  
चूर्णन 540.1  
मैकाई 195.14  
मर्दन 911.1 ⇨  
मसलाई 541.2  
रीदाई 541.4  
वध 251.3  
मर्दन करना  
मर्दन करना 911.0 ⇨

मर्दन कर्ता  
मर्दन कर्ता 911.11 ⇨  
मर्दना  
मौड़ना 195.46  
मर्द पदका  
वीर पुरुष 396.2  
मर्द बध्ना  
वीर पुरुष 396.2  
मर्दानखाना  
मर्दानखाना 614.19 ⇨  
मर्दानगी  
पुंसकता 238.2  
मर्दाना  
पुरुषीय 236.26  
मर्दानखाना 614.19  
वीरोधित 396.7  
मर्दाना आवनी  
वीर पुरुष 396.2  
मर्दानावार  
वीरोधिततः 396.10  
साहसपूर्वक 394.18  
मर्दित  
उत्पीड़ित 391.28  
मर्दित 911.10 ⇨  
मर्दिता  
मर्दन कर्ता 911.11  
मर्दी  
वीरता 396.1  
मर्दुआ  
जार 806.5  
मर्दुम शुभावी  
जन गणना 616.7  
मर्द खुदा  
धर्मनुपालक मुसलमान 736.4  
मर्द  
मर्मस्थल 999.6  
मूल तथ्य 820.16  
लक्ष्य केन्द्र 931.7  
संयुति स्थल 1010.11  
सारांश 449.12  
सूत्र अर्थ 426.10  
हृदय 146.5  
मर्मघाती  
हृदय भंजक 391.34  
मर्मज्ञ  
कला मर्मज्ञ 398.8  
मर्मज्ञ 305.35 ⇨  
रहस्य ज्ञाता 822.23  
मर्मज्ञता  
मर्मज्ञता 305.16 ⇨  
मर्म ज्ञानी  
मर्मज्ञ 305.35  
मर्म प्रहार  
मारक प्रहार 918.6  
मर्म भेदन  
हृदय भंजन 391.17  
मर्मभेदी  
अंतरंग रहस्य ज्ञाता 822.24

मर्मज्ञ 305.35  
हृदय भंजक 391.34  
मर्मर  
मरमराहट 297.37  
संग मरमर 99.9  
मर्मर ध्वनि  
मरमराहट 297.37  
मर्मराहट  
खड़खड़ाहट 297.7  
मर्म वेधन  
मारक प्रहार 918.6  
मर्मवेधी  
हृदय भंजक 391.34  
मर्मस्थ  
मर्मस्थ 999.14 ⇨  
मर्मस्थल  
मर्मस्थल 999.6 ⇨  
हृदय 146.5  
मर्मस्थल विधना  
हृदय भंजित होना 391.22  
मर्मस्थल वेधन  
मारक प्रहार 918.6  
मर्मस्पर्शी  
हृदय भंजक 391.34  
मर्मांग  
मर्मस्थल 999.6  
मर्मांतक  
मारक 251.24  
मर्मांतकेता  
मारकता 251.2  
मर्मांतक प्रहार  
मारक प्रहार 918.6  
मर्माघात  
मारक प्रहार 918.6  
मर्माहत  
भग्नहृदय 391.33  
मर्मी  
मर्मज्ञ 305.35  
मर्माद्घाटन  
रहस्योद्घाटन 822.6  
मर्माद  
मर्मादः 508.5  
मर्माबा  
आचरण 808.1  
आन 349.3  
नियत काल 39.1  
प्रतिष्ठा 849.2  
मर्माबा 808.5 ⇨  
विवाह निष्ठा 805.1  
सीमा 1001.1  
सीमा धिस्तन 1001.15  
मर्माबा उत्संघक  
मर्माबा उत्संघक 809.8 ⇨  
मर्माबा उत्संघन  
मर्माबा उत्संघन 809.2 ⇨  
मर्माबा गिरि  
सीमा पर्वत 1001.16

मर्माबा पर चलना  
मर्माबा पालना 808.10  
मर्माबा पालक  
मर्माबा पालक 808.15 ⇨  
मर्माबा पालन  
मर्माबा पालन 808.7 ⇨  
मर्माबा पालन (वे.)  
सीमा सम्मान 1001.28  
मर्माबा पालना  
मर्माबा पालना 808.10 ⇨  
मर्माबा पुरुष  
महापुरुष 839.3  
राम 770.1  
मर्माबा पुरुषोत्तम  
राम 770.1  
मर्माबापूर्ण  
मर्माबापूर्ण 808.14 ⇨  
मर्माबा रक्षक  
मर्माबा पालक 808.15  
मर्माबा रक्षण  
मर्माबा पालन 808.7  
मर्माबा रक्षा  
मर्माबा पालन 808.7  
मर्माबा रेखा  
मर्माबा रेखा 808.6 ⇨  
मर्माबा लौघना  
मर्माबा लौघना 809.4 ⇨  
मर्माबा व्यतिक्रम  
सीमातिक्रमण 1001.27  
मर्माबाशील  
प्रतिष्ठित 849.15  
मर्माबा पालक 808.15  
मर्माबाशीलता  
सच्चरित्रता 810.2  
मर्माबाहीन  
स्वेच्छाचारी 809.7  
मर्माबाहीनतः  
स्वेच्छाचारितः 809.11  
मर्माबाहीनता  
स्वेच्छाचार 809.1  
मर्माबित  
मर्माबापूर्ण 808.14  
स्थिरचित्त 355.6  
मर्माबितता  
स्थिरचित्तता 355.2  
मर्माबी  
मर्माबा पालक 808.15  
मर्मा  
सहलावन 393.9  
मर्मान  
बर्निशिंग 218.13  
मर्माबाइफ कलाथ (अं)  
धिकना वस्त्र 579.5  
मर्मांग  
अलमस्त 382.23  
अलमस्त व्यक्ति 382.8  
मर्मांगी  
अलमस्ती 382.7

## मल

### मल

तलछट 526.7  
त्वचा मल 215.5  
दुर्गुण 314.4  
दुर्जन 818.5  
देह मल 215 1  
पाप 812.1  
पापी 812.12  
मल 214.1 ⇨  
विष्ठा 216.2  
मलक  
देवदूत 782 1  
मलकुल मीत  
मीत. फ़रिश्ता 256.9  
मलखंभ  
मलखंभ 485 13 ⇨  
मलखम  
मलखंभ 485 13  
मलगजा [मलगजी]  
दला [दली] 540.19  
मसला [मसली] 541.12  
मलघ्न  
स्वच्छक 218.38  
मलट  
पुस्तक आवरण 418 6  
मलट 415.14 ⇨  
मल त्याग  
शीघ्र निवृत्ति 216.7  
मल द्वार  
गुदा 152 7  
मलन  
बर्निशिंग 218.13  
मलना  
घर्षित करना 541.5  
मरोङ्गना 975.22  
मसलना 541.6  
मोङ्गना 195.46  
मालिश करना 225.37  
मल नाशक  
स्वच्छक 218.38  
मल निवारण  
स्वच्छीकरण 218.2  
मल पृष्ठ  
आवरण पृष्ठ 447.24  
मल मांड  
कमोड 216.20  
मलभुक्त  
कौआ 126.22  
मलमल  
मलमल 580.35 ⇨  
महीन वस्त्र 579.7  
मल मास  
मल मास 43.19 ⇨  
मल मूत्र  
मल मूत्र 216.1 ⇨  
मल मूत्र प्रजनन अंग  
गुप्तांग 152.1

### मलमूत्रोत्सर्ग

वर्जित दृश्य सूची 463 28  
मलय  
दक्षिण पवन 85.20  
देवता. उद्यान 772.12  
मलयज  
चंदन 274.20  
दक्षिण पवन 85 20  
मल भारतीय 28.76  
मलयानिल 85 15  
मलय पर्वत  
भारत उपमहाद्वीप. पर्वत सूची 17 1  
मलय पवन  
मलयानिल 85 15  
मलय बंशी जातियाँ  
भूरी जाति 730.11  
मलय समीर  
दक्षिण पवन 85.20  
मलयाथल  
पौराणिक पर्वत सूची 17.8  
मलयाथल 17.13 ⇨  
मलयानिल  
दक्षिण पवन 85.20  
मलयानिल 85.15 ⇨  
मलयालम  
भारत राष्ट्रभाषा सूची 421.4  
मलयुग  
कलियुग 40 15  
मलराना  
गोदी में हुलारना 721.11  
लाङ्ग करना 721.9  
मल रोग  
दस्त 216 12  
मलसा  
घी तेल कुप्पा 678.8  
मल चुपंग  
भूमिगत नाला नाली 23.7  
मलहम  
मरहम 176.21  
मलहीन  
स्वच्छ 218 33  
मलहीनता  
स्वच्छता 218.1  
मला [मली]  
मसला [मसली] 541.12  
मलाई  
क्रीम 196.4  
घर्षण 541.1  
मलाई 196.5 ⇨  
मालिश 225.2  
रबड़ी 203.31  
मलाईघार  
स्निग्ध 197.16  
मलाई बरक  
मलाई: बरक 203.50  
मलाई: बरक  
मलाई: बरक 203.50 ⇨

### मलाका

कुटनी 807.11  
मादा हाथी 127 39  
मलाट  
मलट 415.14  
मलाल  
ईर्ष्या 709 1  
खेद 380 1  
दुःख 391.1  
पाप बोध 813.3  
मलायरोध  
कोष्ठबद्धता 163.30  
मलाशय  
आंत्र 152 2  
बृहदांत्र 152 5  
मलिक  
अल्लाह 764 12  
मलिक [मलिका]  
स्वामी 621 2  
मलिकज़ादा  
राजकुमार 882 20  
मलिकज़ादी  
राजकुमारी 882 21  
मलिक मुअज़्ज़म  
सम्राट 882 24  
मलिक मुअज़्ज़मा  
सम्राट. पत्नी 882 25  
मलिका  
पत्नी 803 6  
राजा पत्नी 882.17  
स्वयं रानी 882.19  
स्वयं सम्राज्ञी 882.26  
मलिका मुअज़्ज़मा  
स्वयं सम्राज्ञी 882.26  
मलिन  
अस्पष्ट 823.11  
उदास 380.14  
कुदृश्य 282.21  
धिभ्र 380 10  
धुँधला [धुँधली] 286.17  
मलिन 217.6 ⇨  
मलिनता  
कुदृश्यता 282 11  
धुँधलापन 286.8  
मलिनता 217.1 ⇨  
मलिनग्रभ  
धुँधला [धुँधली] 286.17  
शोभाहीन 226.12  
मलिनमुख  
भूत 786.1  
मलिन होना  
मलिन होना 217.4 ⇨  
मलिना  
रजस्वला 130.13  
मलिनाबास  
गंदी बस्ती 819.2  
मलिन्कुष  
मल मास 43.19

### मलिच्छ

मलिन 217.6  
मलीबा  
कसार 192.11  
घूरमा 192.12  
घूरमा 203 12  
मसला [मसली] 541.12  
मलीहाबादी  
आम सूची 190 10  
मलेच्छ  
म्लेच्छ जाति. 732.9  
यवन जातीय 732 20  
मलोस  
खेद 380.1  
लालसा 359 5  
मलोसा  
खेद 380 1  
दुःख 391 1  
मल्टीनेशनल कार्पोरेशन (अँ)  
अंतरराष्ट्रीय कंपनी 692 6  
मल्ल  
कुश्तीबाज़ 486 9  
क्षत्रिय 731.19  
पहलवान 486 2  
प्रतिनिधि योद्धा 934.18  
योद्धा 934.15  
मल्लक  
नारियल बरतन 680.5  
मल्ल कर्म  
पहलवानी 486 1  
मल्ल नाथ  
ऐरावत 780.5  
मल्ल भूमि  
कुश्ती मैदान 482 11  
मल्ल युद्ध  
कुश्ती 486.7  
द्वंद्व युद्ध 905.9  
मल्ल योद्धा  
कुश्तीबाज़ 486.9  
मल्ल विद्या  
कुश्ती 486.7  
मल्लार  
राग रागिनी सूची 457.24  
मल्लाह  
कर्णधार 1080.19  
मल्लाह [मल्लाहन]  
नायिक 1080.21  
मल्लाह: पदाश्रय 596.20 ⇨  
मल्लिन  
प्रधान पत्नी 803.7  
मल्लिनका  
घमेली 14.16  
प्रधान पत्नी 803.7  
बेला 14.20  
मालती 14.21  
राजा: पत्नी 882.17  
स्वयं रानी 882.19

स्वयं सप्ताशी 882.26  
 मल्लिकार्जुन  
 ज्योतिर्लिंग सूची 746.19  
 मल्लिकार्जुनेश्वर  
 शिवलिंग सूची 746.17  
 मल्लिनाथ  
 तीर्थंकर सूची 792.2  
 मयकिकल  
 मुयकिकल 874.24  
 मयाद  
 पत्र पत्रिका सामग्री 445.6  
 पूय 167.16  
 भराई सामग्री 1004.4  
 मवेशी  
 गाय भैंस 127.9  
 पशु 127.1  
 पशुधन 127.7  
 मवेशी बाका  
 गोशाला 603.24  
 मवेशी शाला  
 काँजी हाउस 603.22  
 मशक  
 डॉस 122.27  
 पिस्सू 122.30  
 मच्छर 122.38  
 मशक 679.38 ⇨  
 मस्सा 165.11  
 मशक नाव  
 सँकाई 1072.24  
 मशकबीन  
 बैंगपाइप 461.69  
 मशकूर  
 कृतज्ञ 833.8  
 मशकूरत  
 परिश्रम 493.1  
 मशकूरती  
 परिश्रमी 493.9  
 मशागूल  
 व्यस्त 502.13  
 मशररब  
 धर्म 735.1  
 मशापिक्त  
 पूर्व 29.11  
 मशापिक्ती  
 पूर्वी 29.32  
 मशावरा  
 परामर्श 332.1  
 सीख 332.6  
 मशाहूर  
 ख्यात 847.3  
 मशाहुरी  
 ख्याति 847.1  
 मशाल  
 क्रांति ज्वाला 903.7  
 मशाल 285.9 ⇨  
 मशीन (औं)  
 यंत्र 558.10

मशीन का तेल  
 ओइलिंग तेल 538.6  
 मशीन: पदाश्रय  
 मशीन पदाश्रय 596.22 ⇨  
 मशीनमैन (औं)  
 मुद्रण कर्मी 411.4  
 मशीनरी  
 शासन तंत्र 890.2  
 मशीनयत  
 यंत्रयतः 1046.32  
 मशीनी  
 यंत्र चालित 1046.27  
 यंत्रीय 558.23  
 मशक  
 अभ्यास 303.5  
 मशिरा  
 मिशनर 739.17  
 मस  
 नव रोम 135.2  
 मूँछ आरम्भिक रूप 136.6  
 मसकना  
 तड़कना 544.14  
 प्रयत्न करना 489.5  
 संचलित होना 1037.13  
 मसखरा  
 विदूषक 467.19  
 मसखरा  
 विदूषकतापूर्ण 837.17  
 मसखरा  
 हास्य अभिनेता 484.16  
 मसखरा [मसखरी]  
 विनोदी 385.13  
 मसखरापन  
 विदूषकता 837.8  
 मसखरी  
 विनोद 385.1  
 विनोद प्रेम 385.2  
 मसजिद  
 मसजिद 745.17 ⇨  
 मसनद  
 गद्दी 595.13  
 गाव तकिया 593.65  
 तकिया 593.63  
 तरुत 595.27  
 राजा 882.6  
 सत्ता 899.1  
 सिंहासन 595.9  
 मसनवी  
 मसनवी 452.25 ⇨  
 मसना  
 धर्मित करना 541.5  
 मसनूई  
 दिखावटी 825.5  
 मानव रचित 527.19  
 मसरक  
 व्यस्त 502.13  
 मसरत  
 सुख 390.2

मसल  
 उदाहरण 309.6  
 कहावत 424.12  
 मसलाई 541.2  
 मसलन  
 उदाहरणतः 309.25  
 मसलाई 541.2  
 मसलना  
 मर्दन करना 911.8  
 मसलना 541.6 ⇨  
 मॉडना 195.46  
 मसलहत  
 सुपरामर्श 332.3  
 हित 712.1  
 मसला  
 प्रश्न 333.1  
 वाद विषय 437.8  
 समस्या 333.11  
 मसला [मसली]  
 मर्दित 911.10  
 मसला [मसली] 541.12 ⇨  
 मसलाई  
 मँकाई 195.14  
 मसलाई 541.2 ⇨  
 मसहरी  
 मसहरी 593.62 ⇨  
 मसहरीदार पलंग  
 मसहरीदार पलंग 594.11 ⇨  
 मसा  
 मच्छर 122.38  
 मस्सा 165.11  
 मसान  
 श्मशान 254.9  
 मरान काली  
 काली 776.3  
 मसान ज्योति  
 श्मशान दीप्ति 287.19  
 मसान बैताल  
 वेताल 786.11  
 मसाना  
 मूत्राशय 152.6  
 मसानिया  
 श्मशान सायक 759.15  
 मसानी  
 पिशाचिनी 786.9  
 श्मशान सायक 759.15  
 मसालदान  
 मसालदानी 678.12  
 मसालदानी  
 मसालदानी 678.12 ⇨  
 मसाला  
 आहार मसाला 281.3  
 चिनाई: फेंट 599.25  
 छेपव्य सूची 1012.4  
 भराई सामग्री 1004.4  
 संघटक 545.3  
 सुवासय्य 281.2

मसाला कालना  
 आहार सुवासित करना 281.40  
 मसाला पेव  
 मसाला पेय 208.12 ⇨  
 मसाले  
 आहार मसाला 281.3  
 परचून सूची 186.9  
 सुवासय्य 281.2  
 मसालेदार  
 घरपरा [घरपरी] 278.12  
 मसालेदार 281.42 ⇨  
 मसालेदार बोटी  
 क्रोरना 208.37  
 मसालहत  
 तोलन 962.2  
 मसि  
 मूँछ: आरम्भिक रूप 136.8  
 स्थाही 416.25  
 मसिजीवी  
 साहित्य लेखक 448.2  
 मसिधान  
 दवात 416.28  
 मसि धानी  
 दवातदान 416.20  
 मसि पात्र  
 दवात 416.28  
 दवातदान 416.20  
 मसीका  
 माशा 962.49  
 मसीघूब  
 क्लॉटिंग पेपर 416.31  
 मसीत  
 मसजिद 745.17  
 मसीह  
 ईसा 791.8  
 मसीहा 791.3  
 मसीहा  
 ईसा 791.8  
 धर्म चिकित्सक 172.2  
 पुनरुज्जीवक 250.22  
 पेशीबर 791.1  
 मसीहा 791.3 ⇨  
 संकट मोचक 910.10  
 मसीहाई  
 ईसा विषयक 791.31  
 मसीही 791.30  
 मृतक: संजीवन 250.5  
 संकट मोचन 910.1  
 मसीहावम  
 पुनरुज्जीवक 250.22  
 मसीहा विषयक  
 मसीही 791.30  
 मसीही  
 ईसा विषयक 791.31  
 मसीही 791.30 ⇨  
 मसूका  
 मसूका 144.10 ⇨

## मसूर

मसूर  
दलहन सूची 188.7  
मसूर 188.13 ⇨  
मसूरा  
मसूर 188.13  
देश्या 807.5  
मसूरिका  
टीका 178.28  
मसूर 188.13  
मसूण  
कोमल 289.18  
धिकना [धिकनी] 289.22  
मसूणता  
कोमलता 289.4  
धिकनापन 289.7  
मसूँ  
नव रोम 135.2  
मसूँ फूटना  
मूँठ निकलना 136.7  
मसूँ भीजना  
मूँठ निकलना 136.7  
मसूँ: लंकार  
सील का कूँडा 798.29  
मसूँवरा  
मांस व्यंजन 206.30  
मसूँरा  
मिरनह 739.17  
मसूँस  
ईर्ष्या 709.1  
खेद 380.1  
दुःख 391.1  
पाप बोध 813.3  
भाव वचन 358.12  
मसूँसन  
भाव वचन 358.12  
मसूँसना  
इंद्रिय निग्रह करना 364.7  
मरोडना 975.22  
मसूँबा  
आरंभिक अवस्था सूची 994.23  
दस्तावेज़ 412.19  
प्रालेख 520.10  
मसूँबानवीस  
दस्तावेज़ लेखक 412.24  
प्रालेखक 520.20  
मसूँका  
मखखन 196.6  
मसूँजिद  
मसजिद 745.17  
मसूँजुद  
अल्साह 764.12  
मसूँजूदे मलाइक  
आदम 791.6  
मसूँत  
अलमस्त 382.23  
आनंदशील 382.19  
आनंदित 382.17  
उन्मत्त 354.22

क्रीडाप्रिय 469.16  
प्रसन्न 381.7  
मदोन्मत्त 211.15  
मादक 211.12  
मस्तक  
उच्चता: उपमान सूची 982.13  
नीकाग्र 1073.23  
प्रारब्ध लेख 280.6  
मस्तक 140.12 ⇨  
सिर 140.1  
मस्तक-ठोड़ी: भाग  
मुख मंडल 140.11  
मस्तक नमन  
शीश नमन 1080.5  
मस्तक पीका  
सिरदर्द 392.6  
मस्तक रेखा  
मस्तक रेखा 281.36 ⇨  
मस्त कलंबवर  
अलमस्त व्यक्ति 382.8  
क्रीडाप्रिय 469.16  
मस्तक स्नेह  
मस्तिष्क 140.9  
मस्तकहीन  
सिरहीन 140.24  
मस्त पवन  
बयार 85.14  
मस्तबा  
पिरामिड 255.6  
मस्त बीला  
अलमस्त 382.23  
मस्तबीलापन  
अलमस्ती 382.7  
मस्त हाथी  
मस्त हाथी 127.41 ⇨  
मस्त होना  
अति आनंदित होना 382.12  
अलमस्त होना 382.15  
मद प्रभाव होना 211.9  
मस्ताना [मस्तानी]  
अलमस्त 382.23  
आनंदशील 382.19  
क्रीडाप्रिय 469.16  
मदोन्मत्त 211.15  
मस्तानापन  
अलमस्ती 382.7  
मस्तिष्क  
बुद्धि 301.1  
मन 351.2  
मस्तिष्क 140.9 ⇨  
मस्तिष्क (हे.)  
भेजा 140.10  
मस्तिष्क मसूँ  
मस्तिष्क मसूँ 249.5 ⇨  
मस्तिष्कीय  
मस्तिष्कीय 140.27 ⇨  
मस्ती  
अलमस्ती 382.7

आनंद 382.1  
मद 211.1  
विदूषकता 837.8  
धिलास 363.6  
मस्ती आना  
मद प्रभाव होना 211.9  
मस्ती का आलम  
मद 211.1  
मस्तु  
पनीर जल 193.15  
मट्टा 193.10  
मस्तूल  
मस्तूल 1073.11 ⇨  
मस्तूल: अड़डंडा  
मस्तूल: अड़डंडा 1073.14 ⇨  
मस्तूल: आड़  
मस्तूल: आड़ 1073.13 ⇨  
मस्तूल रेखा  
मस्तूल रेखा 968.19 ⇨  
मस्तूल: वस्त्र  
पाल 1073.10  
मस्तूल: शाहीर  
मस्तूल: शाहीर 1073.15 ⇨  
मस्तूल: शिखर  
मस्तूल: शिखर 1073.12 ⇨  
मस्तूली नाब  
नीका सूची 1072.3  
पाल नीक 1072.9  
मस्सा  
गुदाबुंद 166.2  
मस्सा 165.11 ⇨  
मस्सा (हे.)  
रत्ना तिल 165.9  
महँ  
अंदर 999.17  
महँगा [महँगी]  
बहुमूल्य 664.31  
महँगा [महँगी] 664.34 ⇨  
व्ययसाध्य 644.20  
महँगाई  
माल कमी 656.4  
व्यापारिक महँगाई 664.14  
महँगाई भत्ता  
महँगाई भत्ता 643.38 ⇨  
महँगाई होना  
महँगाई होना 664.24 ⇨  
महँगापन  
बहुमूल्यता 664.11  
महँगी  
व्यापारिक महँगाई 664.14  
महँगे  
बहुमूल्यतः 664.38  
महँत  
मठाधीरा 744.1  
साधु 790.16  
मह  
अंदर 999.17  
अत्यधिक 944.7

आनंद 382.1  
बलि कर्म 754.1  
बृहत 979.15  
महान 839.8  
यज्ञ 753.1  
महक  
आहार सुवास 281.1  
गंध 273.3  
सुगंध 273.4  
महकता [महकती]  
सुगंधपूर्ण 273.15  
महकना  
सुगंध फैलाना 273.8  
महकमा  
यिभाग 937.3  
महकूम  
आज्ञापित 347.14  
शासनाधीन 890.19  
महघारी  
पट समक्ष पूर्वरेण सूची 468.19  
महज़  
एकमात्र 946.20  
मात्र 946.19  
विशुद्ध 219.7  
महजिद  
मसजिद 745.17  
महत  
अत्यधिक 944.7  
प्रबल 487.24  
महत्त्वपूर्ण 852.8  
महतर  
प्रधान व्यक्ति 852.4  
शुद्ध 731.28  
महता  
प्रायः मुखिया 892.6  
दस्तावेज़ लेखक 412.24  
प्रधान व्यक्ति 852.4  
महताबी  
खुला वक्रतरा 610.7  
छतः चादर 593.27  
बारहदरा 615.9  
महतापी  
माता 717.7  
महती  
अत्यधिक 944.7  
प्रधान 852.10  
महत्त्वपूर्ण 852.8  
महान 839.8  
महतो  
प्रायः मुखिया 892.6  
दस्तावेज़ लेखक 412.24  
प्रधान व्यक्ति 852.4  
बका ज़मींदार 553.15  
महत्-  
उच्च 982.7  
कठिन 519.18  
बृहत 979.15  
महत् रत्न 764.31



महत्कार्य  
मुख्य कथा 466.10  
महत् तत्त्व  
महत् तत्त्व 764.31 ⇨  
महत् तत्त्व (दे.)  
होली घोस्ट 765.4  
महत्तर  
शूद्र 731.28  
महत्ता  
निर्णायकता 328.5  
प्रधानता 852.3  
महत्त्व 852.1  
महानता 839.1  
महत्त्व  
महत्त्व 852.1 ⇨  
महानता 839.1  
महत्त्व क्रम  
प्रथाक्रम 991.11  
महत्त्व न होना  
महत्त्व न होना 853.5 ⇨  
महत्त्वपूर्ण  
अत्यावश्यक 524.23  
निर्णायकत्व 328.11  
महत्त्वपूर्ण 852.8 ⇨  
महत्त्वपूर्णता  
महत्त्व 852.1  
महत्त्वपूर्ण बात  
बहुमूल्य गुर 517.5  
महत्त्वशालिता  
महत्त्व 852.1  
महत्त्वहीन  
महत्त्वहीन 853.8 ⇨  
महत्त्वहीनता  
महत्त्वहीनता 853.1 ⇨  
महत्त्व्याकांक्षा  
महत्त्व्याकांक्षा 508.3 ⇨  
महत्त्व्याकांक्षी  
महत्त्व्याकांक्षी 508.9 ⇨  
महत्त्वशालिता  
महत्त्व 852.1  
महद  
महत्त्वपूर्ण 852.8  
महदर्थ प्रकाशक वाक्य  
महावाक्य 741.20  
महदाशय  
महान 839.8  
महद्विच्छा  
महत्त्व्याकांक्षा 508.3  
महद्वद  
माना में नियत 946.17  
ससंख्य 942.22  
ससीम 1001.33  
सीमांकित 1001.37  
महद्व.  
ईश्वर 764.1  
उच्च 982.7  
बृहत् 979.15  
महत् तत्त्व 764.31

महन्  
उच्च 982.7  
बृहत् 979.15  
महकिल  
गोष्ठी 694.4  
झाड़ग रुम 614.18  
संगीत मूल्य सभा 468.4  
सभा 694.1  
महकिल गरम होना  
रसोत्पादन होना 468.33  
महकृष्ण  
सुरक्षित 908.27  
महकृष्ण  
प्रेमपात्र 369.4  
महकृष्ण  
प्रेमपात्रा 369.5  
महकृष्ण  
मुहम्मद 791.20  
महकृष्ण  
मुहम्मद 791.20  
महकृष्ण  
मुहम्मद विषयक 791.32  
महकृष्ण [महमही]  
सुगंधित 274.31  
महकृष्ण  
सुगंध फिलाना 273.8  
महकृष्ण  
ज़ीन सूधी 595.48  
महकृष्ण 595.52 ⇨  
महकृष्ण  
मुहम्मद विषयक 791.32  
महकृष्ण  
एक 555.21  
महकृष्ण  
मुहम्मद विषयक 791.32  
महकृष्ण  
तलारु घन 804.9  
नद 771.67  
महकृष्ण  
अंगिया. कटोरी 585.68  
परदा निषिद्ध सब्धी 591.6  
महकृष्ण  
अगुआ 346.3  
ग्राम. मुखिया 892.6  
पंचायत अध्यक्ष 892.5  
प्रतिष्ठित 849.15  
प्रधान व्यक्ति 852.4  
महकृष्ण  
गृहस्थिन 235.4  
यशोदा 771.79  
महकृष्ण  
असफल 513.4  
प्रबंधित 835.25  
महकृष्ण  
असफलता 513.1  
दुर्भाग्य 260.18  
महकृष्ण  
कृष्ण 771.1

महकृष्ण  
राधा 771.83  
महकृष्ण  
सात लोक सूधी 258.6  
महकृष्ण  
प्रजापति 787.1  
ब्रह्मा: मानस पुत्र 766.11  
महकृष्ण 789.4 ⇨  
दिष्णु 768.1  
महकृष्ण  
अवसर 70.1  
पत्नी 803.6  
महकृष्ण 602.32 ⇨  
महकृष्ण 619.6  
राज महल 602.34  
राजा: पत्नी 882.17  
श्रीता: गृह 601.3  
संभावना लक्षण 68.3  
स्मारक: प्रकार सूधी 77.13  
महकृष्ण (दे.)  
ऐश्वर्य भवन 802.12  
महकृष्ण: बरामबा  
महकृष्ण: बरामबा 615.7 ⇨  
महकृष्णसर  
जनानखाना 614.20  
महकृष्ण  
मंजिल 612.1  
महकृष्ण  
प्रधान पत्नी 803.7  
महकृष्ण  
पड़ोस 31.3  
पता निर्देश 444.14  
महकृष्ण 619.6 ⇨  
शहरी सड़क 1063.37  
महकृष्ण  
पड़ोसी 31.4  
महकृष्ण  
क्रायत दिन 530.4  
सभागार 695.1  
महकृष्ण  
उगाहा [उगाही] 634.24  
कर 647.2  
सुधी कर 647.15  
भाका 622.10  
महकृष्ण  
चौर  
चुंगी तस्कर 864.42  
महकृष्ण  
चौरी  
चुंगी तस्कर 864.41  
महकृष्ण  
कराधीन 647.40  
महकृष्ण  
अनुभूत 263.10  
ज्ञात 305.29  
महकृष्ण  
अनुभूति होना 263.7  
महकृष्ण [महकृष्ण]  
तेजस्वी 839.9

महकृष्ण  
शिव 767.1  
महकृष्ण  
ब्रह्मंड 1.1  
महकृष्ण  
अज्ञान अधिकार 306.2  
गहन अधिकार 286.2  
महकृष्ण  
अरब 948.79  
महकृष्ण  
अत्यधिक 944.7  
उच्च 982.7  
उत्पन्न 313.13  
बृहत् 979.15  
महत्त्वपूर्ण 852.8  
महान 839.8  
महकृष्ण  
महा अध्यक्ष 852.16 ⇨  
महा अभियोग  
महाभियोग 875.6  
महाउत्त  
महावत 1082.15  
महा कंजुस  
अति कृपण 639.27  
महाकृष्ण  
प्याज 281.24  
महाकृष्ण  
बका कमरा 614.2  
महाकृष्ण  
समुद्र 24.1  
महा कृष्ण  
कूर्म अवतार 789.19  
महा कटक  
महा समूह 690.3  
महाकर्म  
महान कार्य 506.6  
महाकर्म  
दिष्णु 768.1  
महाकल्प  
महाकल्प 40.7 ⇨  
महाकवि  
अच्छा कवि 448.15  
प्रबंध कवि 448.19  
वाल्मीकि 789.19  
शुक्राचार्य 789.23  
महाकाल  
शिव 767.1  
महाकाय  
महाकाय 154.22 ⇨  
विकराल 154.23  
महाकायता  
महाकायता 154.7 ⇨  
महाकाल  
अनादि अनंत काल 36.2  
महाकाल 773.40 ⇨  
महाकाल शैव 767.30  
रुद्र 767.34  
शिव 767.1

## महाकाल (भैरव)

महाकाल (भैरव)  
 शिवः पुत्र सूची 767.22  
 महाकाल भैरव  
 महाकाल भैरव 767.30 ⇨  
 महाकालः शक्ति  
 महाकालः शक्ति 773.41 ⇨  
 महाकाली  
 दुर्गा 776.7  
 दुर्गा मूर्ति सूची 746.4  
 महाकाली 776.4 ⇨  
 महापारी 163.7  
 महाकालेश्वर  
 ज्योतिर्लिंग सूची 746.19  
 महाकाव्य  
 प्रबंध काव्य 451.11  
 महाकाव्य 451.12 ⇨  
 महाकाव्यकार  
 प्रबंध कवि 448.19  
 महाकाशीय  
 अंतरिक्षीय 2.8  
 महाकुंभ  
 कुंभ उत्सव 57.3  
 महा कुमार  
 युवराज 882.22  
 महाकुल  
 उच्च कुल 728.2  
 महाकुल्या  
 चौड़ी जलप्रीया 24.11  
 महाकोप  
 शिव 767.1  
 महाकोश  
 धिसारस 446.14  
 महाक्रानु  
 विष्णु 768.1  
 महाक्रान्ति  
 महाक्रान्ति 903.10 ⇨  
 महाक्ष  
 विशालनयन 158.26  
 विष्णु 768.1  
 महाखंड  
 महाद्वीप 26.4  
 महागज  
 दिग्गज 780.1  
 महागज्जी  
 दिग्गज स्त्री 780.2  
 महागुरु  
 धर्म शिक्षक 742.21  
 मठाधीश 744.1  
 महाधार्म्य 790.3  
 विश्वगुरु 323.6  
 महागुल्म  
 बटालियन 932.28  
 महागौरी  
 दुर्गा 776.7  
 पार्वती 776.9  
 महाग्रंथि  
 पीयूषिद 132.15

महाग्रह  
 राहु 6.4  
 महाग्रीय  
 ऊँट 127.27  
 शिव 767.1  
 महाघंट  
 मंदिरः बड़ा घंटा 461.29  
 महाघोष  
 घोर ध्वनि 294.6  
 घोर ध्वनिक 294.28  
 महाघंडा  
 घामुंडा 776.5  
 महाघंडी  
 घामुंडा 776.5  
 दुर्गा 776.7  
 पार्वती 776.9  
 महाघंडी यज्ञ  
 यज्ञ सूची 753.2  
 महाधार्म्य  
 धर्म शिक्षक 742.21  
 पोप 744.33  
 महाधार्म्य 790.3 ⇨  
 महाछाय  
 बरगद 13.16  
 महाजन  
 कुलीन जन 728.5  
 प्रधान व्यक्ति 852.4  
 महान जन 839.2  
 व्यापारी वैश्य 731.26  
 साहूकार 633.4  
 महाजन बही  
 देनदार बही 632.16  
 महाजनी  
 साहूकारा 633.3  
 महाजनी संस्थान  
 बैंक 631.1  
 महाजनी हुंडी  
 हुंडी 633.16  
 महाजयी  
 जयशील 912.16  
 महाजल  
 समुद्र 24.1  
 महाज्ञानी  
 महाज्ञानी 305.31 ⇨  
 महामुनि 789.16  
 शिव 767.1  
 महाज्योति  
 चकार्थीय पूर्ण 287.35  
 महाज्याल  
 चकार्थीय पूर्ण 287.35  
 शिव 767.1  
 महातत्त्व  
 महत् तत्त्व 764.31  
 महातल  
 सात पाताल सूची 258.6  
 महातारा  
 महातारा 774.63 ⇨

महातित्त  
 नीम 13.12  
 महातेजा  
 तेजस्वी 839.9  
 पारल 94.9  
 वीर 396.6  
 स्कंद 773.50  
 महात्मा  
 ईश्वर 764.1  
 धर्म शिक्षक 742.21  
 महत् तत्त्व 764.31  
 महात्मा 790.7 ⇨  
 महापुरुष 839.3  
 शिव 767.1  
 संन्यासी 790.11  
 साधु 790.16  
 साधु संन्यासी 790.1  
 महात्माः आसन  
 संतः आसन 595.12  
 महात्मा गौधी दत्त नाम  
 हरिजन 731.12  
 महात्म्य  
 महत्त्व 852.1  
 महात्याग  
 महादान 641.9  
 महात्यागी  
 शिव 767.1  
 महा त्रिपुर जुंदरी  
 कामदेवी सूची 774.22  
 ललिता देवी 774.80  
 महादंडधर  
 यमराज 256.1  
 महादंष्ट्र  
 राक्षस सूची 784.4  
 महादाशा  
 ग्रहभोग काल 4.11  
 महादान  
 महादान 641.9 ⇨  
 महादानी  
 दानवीर 641.28  
 महादारु  
 देवदारु 13.10  
 महादुर्गा  
 दुर्गा 776.7  
 महादैव  
 प्रधान देवता 772.21  
 शिव 767.1  
 शिव. आठ रूप सूची 767.26  
 महादैव गण  
 शिव गण 767.31  
 महादैवी  
 गायत्री 774.34  
 दुर्गा 776.7  
 पार्वती 776.9  
 भगवती 774.59  
 राजाः प्रधान पत्नी 882.18  
 ललिता देवी 774.80  
 सम्राटः पत्नी 882.25

स्वयं सम्राज्ञी 882.26  
 महादेश  
 उप महाद्वीप 26.8  
 महाधुति  
 चकार्थीय पूर्ण 287.35  
 महाद्रुम  
 पीपल 13.14  
 बड़ा वृक्ष 111.21  
 महाद्रोण  
 सुमेरु 17.17  
 महाद्वार  
 फाटक 608.9  
 महाद्वीप  
 महाद्वीप 26.4 ⇨  
 महाद्वीप सूची  
 महाद्वीप सूची 26.5 ⇨  
 महाद्वीपीय कगार  
 महाद्वीपीय. कगार 25.10 ⇨  
 महाद्वीपीय भूमि  
 थलीय धरातल 25.3  
 महाधनुष  
 शिव 767.1  
 महाधातु  
 प्लैटीनम 94.11  
 स्वर्ण 95.4  
 महाधारा  
 समुद्री जलधारा 21.17  
 महाधिबक्ता  
 महाधिबक्ता 874.27 ⇨  
 महाधूर्त  
 अति कुटिल 818.8  
 महाध्यक्ष  
 महा अध्यक्ष 652.16  
 महानंद  
 आत्मानंद 382.5  
 महान  
 अत्यधिक 944.7  
 आदर्शवादी 829.10  
 उत्तम 313.13  
 प्रबल 487.24  
 बृहत 979.15  
 महत्त्वपूर्ण 852.8  
 महान 839.8 ⇨  
 महान आशय  
 महत्त्वाकांक्षा 508.3  
 महान कार्य  
 महान कार्य 506.6 ⇨  
 महानगर  
 महानगर 620.12 ⇨  
 महानगर पालिका  
 नगर निगम 892.8  
 महान जन  
 महान जन 839.2 ⇨  
 महानट  
 शिव 767.1  
 महान्मता  
 उत्तममता 313.3  
 गौरव 849.4

बृहत्ता 979.1	महानुभाव	महाज्ञानी 305.31	महाबोधि बट
महानता 839.1 ⇨	पत्रासं: संशोधन आदि सूची 444.41	महा प्रबंधक	महाबोधि बट 13.18 ⇨
सदाशायता 817.4	महान 839.8	महा प्रबंधक 655.10 ⇨	महा ब्राह्मण
महानद	सदाशय 817.10	महाप्रभ	अति संस्कार कर्ता ब्राह्मण 731.15
बड़ी नदी 20.5	महानेत्र	तेजस्वी 839.9	महाभाग
महानदी	विशालनयन 158 26	प्रभावशाली 511.17	विष्णु 768.1
नदी मार्ग 1066.6	शिव 767.1	महाप्रभु	महाभाग [महाभाग]
बड़ी नदी 20.5	महानोवा	इंद्र 773.5	ख्यात 847.3
भारत उपमहाद्वीप. नदी सूची 20.7	महानोवा 3.4 ⇨	ईश्वर 764.1	पुण्य कर्ता 814.5
महान परिवर्तन	महापंक	पोप 744.33	महाभाग
क्रांति 903.5	महापाप 812.3	मठाधीश 744.1	दाक्षायणी 767.4
महान प्रयत्न	महा पंडित	महात्मा 790.7	महाभारत
महान प्रयत्न 489.2 ⇨	पूर्णविद्य 318.5	सम्राट 882.24	कृष्णकथा: ग्रंथ सूची 771.21
महान योजना	प्रवीण व्यक्ति 303.9	सर्वोच्च सत्ताधारी 899.5	महाभारत 771.22 ⇨
दिवा स्वप्न 267.2	महा विद्वान 319.3	महा प्रयाण	महायुद्ध 905.8
महानव तारा	सिद्ध कलाकार 397.19	मृत्यु 249.1	महाभारत (सीति)
महानोवा 3 4	महापक्ष	युद्ध यात्रा 907.23	महाभारत 771.22
महा नवत्र	गरुड 777.15	महा प्रयास	महाभारत कालीन
महानोवा 3 4	महापथ	महान कार्य 506.6	द्वापर युगीन 40.19
महान व्यवहार	आकाश गंगा 1.14	महान प्रयत्न 489.2	महाभारत: पर्व सूची
महानता 839.1	राजमार्ग 1083.39	महा प्रलय	महाभारत: पर्व सूची 771.23 ⇨
महान संकट	महापद्म	जल प्रलय 530.2	महाभारत रथेता
महा संकट 909.2	आठ नागराज सूची 778.18	महाक्रांति 903.10	वेद व्यास 789.21
महान संकट आना	कुंभेर: नवनिधि सूची 779.12	महाप्रस्थ	महाभारतीकरण
महान संकट आना 909.18 ⇨	श्वेत, कमल 14 7	समतल भूमि 986 3	द्रुवीकरण 885.12
महान स्त्री	महापात्र	महाप्रस्थान पर्व	महाभारतीयकृत
महान स्त्री 839.4 ⇨	अति संस्कार कर्ता ब्राह्मण 731 15	महाभारत. पर्व सूची 771.23	द्रुवीकृत 885.41
महानाद	प्रधान मंत्री 889.21	महाप्राण	महाभिधु
घोर ध्वनि 294.6	महापाद	महाप्राण वर्ण 411.14	गीतम बुद्ध 793.1
घोर ध्वनिक 294 28	शिव 767.1	महाशक्तिशाली 487.21	महाभियोग
बका डोल 461.45	महापाप	महाप्राण वर्ण	महाभियोग 875.6 ⇨
सिंह 127.50	महापाप 812.3 ⇨	महाप्राण वर्ण 411.14 ⇨	महाभिवच
हाथी 127 38	महापापी	महाफैल	सोमरस 210.5
महा नायक	महापापी 812.14 ⇨	नारियल 13.11	महाभीम
पोताध्यक्ष 1080.16	महापाप्मा	महाबल	अति भयानक 395.28
महा सेनापति 935.2	महापापी 812.14	दान्य सूची 783.13	भीमकाय 154.26
विंग कमांडर 935 9	महा पाशुपत	वायु 85.1	शांतनु 771.89
सम्राट 882.24	मौलिसिरी 13.20	विष्णु 768.1	महाभीष्म
महा नाविक	महापिंड	शिव 767.1	शांतनु 771.89
पोताध्यक्ष 1080.16	ब्रह्मांड 1.1	महा बलाधिकृत	महाभुज
महा निदेशालय	महापिता	कमांडर इन चीफ 935 11	विशालबाहु 158.32
महा निदेशालय 854.10 ⇨	पोप 744.33	महा सेनापति 935.2	शिव 767.1
महानिद्रा	महा पुजारी	महाबली	महाभूत
मृत्यु 249.1	बिशप 744.34	अति बलिष्ठ 160.11	तत्त्व 78.6
महानिधि	महापुर	महायोद्धा 934.20	विष्णु 768.1
शिव 767.1	महानगर 620.12	महाबाहु	शिव 767.1
महा निर्वाण	महा पुराण	अति बलिष्ठ 160.11	महा कैरव
मोक्ष 257.1	पुराण 740.15	महायोद्धा 934.20	कैरव गण सूची 767.33
महानिशा	महा पुरुष	विशालबाहु 158.32	शिव 767.1
प्रलय रात्रि 530.3	महात्मा 790.7	महावीर	महाभोग
मध्य रात्रि 48.11	महापुरुष	महावीर 792.4	अति आनंद 382.4
महाकाल: शक्ति 773.41	महापुरुष 839.3 ⇨	हनुमान 781.19	महाभोज
महानीच	महापोष	महाबुद्धि	सम्राट 882.24
महापापी 812.14	पोप 744.33	विष्णु 768.1	महा मंडल
महा नीच	महापीर	महाबोधि	महासंघ 692.15
बकौतरा 190.18	नगर निगम अध्यक्ष 892.9	गीतम बुद्ध 793.1	महा समूह 690.3
महानील	महाप्रज्ञ	बौद्ध भिक्षु 790.27	महा मंडलेश्वर
गहवा नीला 289.50	ग्रीकधी 301.25		सम्राट 882.24

## महामंत्र

**महामंत्र**  
 अच्छी सीख 332.7  
 गुरुमंत्र 742.10  
 बहुमूल्य गुर 517.5  
 महामंत्र 741.2 ⇨  
 वेद मंत्र 741.5  
**महामंत्री**  
 प्रधान मंत्री 889.21  
**महामणि**  
 रत्न 98.1  
**महामति**  
 महा विद्वान 319.3  
 विशालहृदय 817.11  
**महामाध**  
 मस्त हाथी 127.41  
**महामनस्कता**  
 विशाल हृदयता 817.5  
**महामना**  
 विशालहृदय 817.11  
 विष्णु 768.1  
**महा मठिन**  
 सर्वोच्च सत्ताधारी 899.5  
**महा महोपाध्याय**  
 महा विद्वान 319.3  
**महामांस**  
 गो मांस 206.21  
**महामार्ग**  
 देवी 774.49  
**महामातृ**  
 प्रधान मंत्री 889.21  
**महामात्र**  
 प्रधान मंत्री 889.21  
 महावत 1082.15  
 विशेषाधिकारी 897.17  
**महामातृ**  
 महत्त्वपूर्ण 852.8  
 महात्मा 790.7  
 लोकमान्य 849.21  
 सर्वोच्च सत्ताधारी 899.5  
**महामाध**  
 शिव 767.1  
**महामाया**  
 दिव्यास्त्र सूची 928.2  
 दुर्गा 776.7  
 महामाया 774.64 ⇨  
 माया 762.9  
 माया देवी 793.13  
 योग माया 771.82  
**महामाया (दे. कृष्ण)**  
 महामाया 774.64  
**महामारी**  
 महाकाली 776.4  
 महामारी 163.7 ⇨  
**महामाली**  
 यक्ष सूची 779.3  
**महामाध**  
 राजमाह 188.16

**महापुनि**  
 गीतन बुद्ध 793.1  
 महर्षि 789.4  
 महापुनि 789.16 ⇨  
**महामूल्य**  
 बहुमूल्य 664.31  
**महापुग**  
 बारहासिगा 127.46  
 हाथी 127.38  
**महा मृत्युंजय मंत्र**  
 मंत्र सूची 741.4  
 संजीवनी मंत्र 260.8  
**महामेधा**  
 पारिजात वृक्ष 13.30  
**महामेध**  
 तेजस्वी 839.9  
**महामेधा**  
 प्रीकृषी 301.25  
**महामेधा**  
 काली 776.3  
 दुर्गा 776.7  
**महामोह**  
 विषय वासना रूपी अज्ञान 761.2  
**महायज्ञ**  
 विष्णु 768.1  
**महायात्रा**  
 युद्ध यात्रा 907.23  
**महायान**  
 त्रियान सूची 737.18  
 बौद्ध संप्रदाय सूची 737.15  
**महायुग**  
 चतुर्गुणी 40.10  
**महायुद्ध**  
 भीषण युद्ध 905.7  
 महायुद्ध 905.8 ⇨  
 विश्वयुद्ध 905.18  
**महायुध**  
 शिव 767.1  
**महा योगिनी**  
 योगेश्वरी 756.6  
**महायोगी**  
 नर नुरगी 126.65  
 योगेश्वर 756.5  
 विष्णु 768.1  
**महा योगेश्वर**  
 योगेश्वर 756.5  
 वसिष्ठ 789.18  
**महायोद्धा**  
 महायोद्धा 934.20 ⇨  
**महायोनि**  
 ब्रह्मांड 1.1  
**महारथ**  
 महान कार्य 506.6  
**महार [महारिन]**  
 पनहार 19.25  
**महारजत**  
 स्वर्ण 95.4

**महारण्य**  
 गहन वन 12.7  
**महारत**  
 अभ्यास 303.5  
 कार्य क्षमता 487.9  
 प्रवीणता 303.8  
**महारत्न**  
 मवरत्न 96.6  
**महारथी**  
 प्रवीण व्यक्ति 303.9  
 महायोद्धा 934.20  
 महा विद्वान 319.3  
**महारस**  
 कौजी 208.13  
 ठला लोहा 93.9  
 पारा 94.9  
 रसपूर्ण 84.17  
**महाराज**  
 ब्राह्मण 731.13  
 रसोद्धार 195.7  
 सम्राट 882.24  
**महाराज [महारानी]**  
 वज्र [वनी]: पक्कम (कच्छ) सूची 882.10  
**महाराजा**  
 सम्राट 882.24  
**महाराजा [महारानी]**  
 वज्र [वनी]: पक्कम (कच्छ) सूची 882.10  
**महाराजाधिराज**  
 सम्राट 882.24  
**महाराजिन**  
 रसोद्धारिन 195.8  
**महाराज्ञी**  
 स्वयं सम्राज्ञी 882.26  
**महाराणा**  
 महाराणा 882.14 ⇨  
 सम्राट 882.24  
**महारात्र**  
 मध्य रात्रि 48.11  
**महारात्रि**  
 महारात्रि 774.65 ⇨  
**महाराना**  
 महाराणा 882.14  
**महारानी**  
 राजा: प्रधान पत्नी 882.18  
 स्वयं सम्राज्ञी 882.26  
**महारावण**  
 महारावण 784.7 ⇨  
 राक्षस सूची 784.4  
**महाराष्ट्र**  
 महाराष्ट्र 28.58 ⇨  
**महाराष्ट्र: राजधानी**  
 महाराष्ट्र: राजधानी 28.59 ⇨  
**महाराष्ट्री**  
 प्राकृत सूची 421.9  
**महारात्त**  
 डांडिया रास 462.10  
 महारात्त 462.11 ⇨

**महाफल**  
 शिव 767.1  
**महारेता**  
 शिव 767.1  
**महारोग**  
 महारोग 103.2 ⇨  
**महारोग**  
 अति भयानक 395.26  
**महारीक्षी**  
 दुर्गा 776.7  
**महाथ**  
 व्ययसाध्य 644.20  
**महाथ धातु**  
 चौंठी सोना 95.1  
**महाथ्य**  
 बहुमूल्य 664.31  
**महाथर्व**  
 महा समुद्र 24.4  
 शिव 767.1  
**महाथ**  
 अर्धयुक्त 426.27  
**महाथता**  
 निर्णायकता 328.5  
**महाथक**  
 सौंठ 281.35  
**महाथुव**  
 अरब 948.79  
 दस अरब 948.80  
**महाल**  
 क्षेत्र 34.1  
 महल्ला 819.6  
 विभाग 937.3  
**महालक्ष्मी**  
 कामदेवी सूची 774.22  
 दुर्गा मूर्ति सूची 746.4  
 लक्ष्मी 775.1  
**महालय**  
 तीर्थ स्थान 1089.10  
 देव मंदिर 745.30  
 पिपु पक्ष 45.4  
 बौद्ध मठ 745.12  
**महालिंग**  
 शिव 767.1  
**महालीह**  
 लीह बुंबक 1050.9  
**महावंरा**  
 महावंरा 740.6 ⇨  
**महावट**  
 शीत काल वर्षा 54.12  
**महावत**  
 महावत 1082.15 ⇨  
**महावत: पद्माश्रय**  
 महावत: पद्माश्रय 596.21 ⇨  
**महावत शीट**  
 महावत शीट 595.48 ⇨  
**महावन**  
 गहन वन 12.7  
 गच्छ 777.15

महावर	गरुड 777.15	दुर्गा 776.7	सती स्त्री 249.17
महावर 225.32 ⇨	सीधंकर सूची 792.2	महाशक्ति 776.22 ⇨	महासत्य
महावर रंजन	पुंसक 238.13	शक्ति 776.17	अति बलिष्ठ 160.11
सोलह सिंगार सूची 222.3	बलिष्ठ पुरुष 160.4	स्कंद 773.50	गाय र्षस 127.9
महा वराह	बाज गिद्ध 126.29	महाशक्ति पूजा	महाशक्तिशाली 487.21
वराह अवतार 769.34	महायोद्धा 934.20	दुर्गा पूजा 57.14	महासभा
महावर्ष	महावीर 396.8 ⇨	महाशक्तिशाली	महासंघ 692.15
महाद्वीप 26.4	महावीर 792.4 ⇨	महाशक्तिशाली 487.21 ⇨	राजनीतिक दल 885.15
महावर्षा	यज्ञान्नि 106.4	महाशठ	सभा 694.1
अति वर्षा 54.6	विष्णु 768.1	धतूपा 212.7	महा सभिति
तीव्र वर्षा 54.11	सिंह 127.50	महापाय	महासभिति 692.24
महावाक	हनुमान 781.19	आदर्शवादी 829.10	महासभिति
महावाक्य 741.20	महावीर चक्र	उदार 344.5	महासभिति 692.24 ⇨
महावाक्य	भारतीय सेना वीरता चक्र सूची 857.12	कल्याण कामी 710.23	महा समुद्र
महावाक्य 741.20 ⇨	महावीर जयंती	पत्रासंभ-संश्लेषण आदि सूची 444.41	महा समुद्र 24.4 ⇨
महावाग	महावीर जयंती 57.38 ⇨	महत्त्वाकांक्षी 50P.9	महा समूह
महावाक्य 741.20	महावीर धर्म	महान 839.8	महा समूह 690.3 ⇨
महायात	जेन धर्म 737.1	विशालहृदय 817.11	महा सजिष
अंधी 85.5	महावीरः पिता	सदाशय 817.10	पीयूषिद 132.15
महायाद	महावीर पिता 792.5 ⇨	महाशयता	महा सागर
शास्त्रार्थ 324.6	महावीरः माता	महानता 839.1	महा समुद्र 24.4
महायादी	महावीर माता 792.6 ⇨	सदाशयता 817.4	महा सामंत
महाधिवक्ता 874.27	महावीर वर्धमान	महाशास्ता (मोहिनी आर्षिगन काल)	महा सामंत 882.33 ⇨
महा विकट	महावीर 792.4	शिव पुत्र सूची 767.22	महासामंत वर्ग
अति भयानक 395.26	महावीर्य	महाशिरा	उच्च वर्ग 688.8
दैत्यकाय 154.24	पुंसक 238.13	दानय सूची 783.13	महा सारथी
विकराल 154.23	ब्रह्मा 756.1	महा शिवरात्रि	अरुण 777.14
महा विकराल	शिय 767.1	शिवरात्रि 57.27	महा साहस
विकराल 154.23	महावीर्या	महाशुक्ति	दुस्साहस 394.3
महा विक्रम	सज्ञा 774.94	सीपी 124.19	महान प्रयत्न 489.2
अति बलिष्ठ 160.11	महायूक्ष	महाशून्य	महासुरी
महावीर 396.8	ताड़ 13.8	आकाश 2.1	माहेश्वरी 774.72
वीर 396.6	महायूष	महाशोक	महासेन
महाविद्या	साँड 127.12	मृत्यु शोक 253.14	कर्मांडर इन चीफ 935.11
काली 776.3	महायोग	महाश्रमा	महा सेनापति 935.2
तारा देवी 774.39	गरुड 777.15	बहभूल्य रत्न 96.3	स्कंद 773.50
देवी 774.1	दुत्तगामी [दुत्तगामिनी] 1044.7	रत्न 96.1	महासेना
देवी 774.49	महावैद्य	महा भ्रमण	ललिता देवी 774.80
बंगलामुखी 774.55	महावैद्य 172.9 ⇨	गीतम बुद्ध 793.1	महा सेनापति
भैरवी 776.13	महाव्याधि	महाभेणी	कर्मांडर इन चीफ 935.11
महाविद्या 774.66 ⇨	प्रमेह 163.33	महासंघ 692.15	महा सेनापति 935.2 ⇨
मातंगी 774.67	महारोग 183.2	महाश्रेष्ठि	महास्कंध
ललिता देवी 774.80	महा व्याहृति	जगः सेठ 626.9	ऊँट 127.27
महा विद्यालय	महा व्याहृति 741.18 ⇨	महाश्वेता	महास्थली
शिक्षालय सूची 321.11	महा व्याहृति सूची	सरस्वती 775.8	पृथ्वी 9.1
महा विद्वान	महा व्याहृति सूची 741.23 ⇨	महाशची	महास्पद
महा विद्वान 319.3 ⇨	महाव्योम	सरस्वती 775.8	उच्च पदाधिकारी 652.6
महाधिरति	अतरिक्ष 2.3	महा संकट	महास्वन
ज्ञानयोग 756.8	महाव्योमीय	महा संकट 909.2 ⇨	अतिस्वन गामी 1044.8
महाधिश्वीय	अतरिक्षीय 2.8	महासंघ	महास्न
ब्रह्मांडीय 1.15	महाव्रती	महासंघ 692.15 ⇨	अपरास्न 47.11
विश्व स्तरीय 35.9	शिय 767.1	महा समूह 690.3	महि
महाधिष	महाशंख	महासंध्या	अंदर 999.17
दोमुँहा साँप 123.12	कुबेर नवनिधि सूची 779.12	महाकालः शक्ति 773.41	महि
महा धिनुव	मस्तक 140.12	महा सधिव	पृथ्वी 9.1
वसंत धिबुव 5.24	महाशक्ति	महा सधिव 652.25 ⇨	महत् तत्त्व 764.31
महावीर	कुडलिनी 757.1	महासती	महिमा
इंद्र वज्र 928.8	गायत्री 774.34	पतिव्रता 805.6	ईश्वरीय लीला 764.2

## महिमान्वित

गौरव 849.4	महीन	महेरा	महीजा
प्रशंसा 841.1	कनकना [कनकनी] (स्वर) 299.27	मट्ठा 193.10	तेजस्वी 839.9
महत्त्व 852.1	बारीक 985.13	महेश	महीबध
महानता 839.1	संकीर्ण 980.29	शिय 767.1	जमीकंद 189.21
सिद्धि देवी सूची 774.101	सूक्ष्म 980.21	महेश (दे. शिव)	लहसुन 281.29
महिमान्वित	महीन छनाई	हिंदू त्रिमूर्ति सूची 765.8	सॉट 281.35
महत्त्वपूर्ण 852.8	कपकछनाई 1009.9	महेश्वर	महीबधि
महिमापूर्ण	महीन वस्त्र	रुद्र सूची 767.36	दूब घास 11.10
महत्त्वपूर्ण 852.8	महीन वस्त्र 579.7 ⇌	शिय 767.1	शिय 767.1
महिमा मंडित	महीना	महेश्वरी	मह
महत्त्वपूर्ण 852.8	मास 43.1	दुर्गा 776.7	तलाक़ घन 804.9
महिमाशाली [महिमाशालिनी]	मासिक वेतन 643.26	महेश्यास	मौ
महत्त्वपूर्ण 852.8	महीने	धनुषधारी 930.13	माता 717.7
महिमाहीन	वय गणना: उपगान सूची 229.12	महायोद्धा 934.20	स्नान्य दात्री 207.15
महत्त्वहीन 853.8	महीप	शिय 767.1	मौंग
महिमाहीनता	राजा 882.6	महैला	अधिकार दावा 897.5
महत्त्वहीनता 853.1	महीपाल	बड़ी इलायची 281.10	अनुरोध 350.6
महिरावण	राजा 882.6	महोगनी (औं)	अपेक्षा 359.3
राक्षस सूची 784.4	मही पुत्री	काष्ठ सूची 597.2	आवश्यकता 524.7
महिला	सीता 770.66	महोत्सव	इच्छा 359.1
कुलीन स्त्री 728.7	महीय	उत्सव 56.1	भुगतान मौंग 634.2
स्त्री 236.3	पृथ्वीय 9.21	महोत्साह	मौंग 656.1 ⇌
महिलाश्रम	महीयस	महान प्रयत्न 489.2	याचना 642.1
विद्ययाश्रम 801.11	प्रधान 852.10	महोदधि	लालसा 359.5
महिष	महीयस [महीयसी]	महा समुद्र 24.4	सीमंत 223.18
असुर सूची 783.8	अत्यधिक 944.7	महोदय	मौंग उजड़ना
नर भैस 127.20	बृहत 979.15	पत्रात्र: स्मोघन आदि सूची 444.41	विधवा होना 804.24
महिष [महिषी]	महान 839.8	महापुरुष 839.3	मौंग करना
एज [स्त्री]: पनाम (कच्छ) सूची 882.10	महीयान	समुद्र 626.11	अनुरोध करना 350.12
महिषाक्षी	अत्यधिक 944.7	सौभाग्यशाली 260.33	भुगतान की मौंग करना 634.18
गुग्गुल 274.18	प्रधान 852.10	महोदय [महोदया]	मौंग कर्ता
महिषार्दन	शक्तिशाली 487.20	महान 839.8	मौंग कर्ता 656.2 ⇌
स्कंद 773.50	महीश	महोदया	मौंग का सिद्धर
महिषासुर भर्त्सिनी	राजा 882.6	कुलीन स्त्री 728.7	पति 803.5
दुर्गा 776.7	महीसुत	स्त्री उपाधि सूची 856.4	मौंग टीका
महिषी	मगल ग्रह 7.7	महोदर	टीका 228.14
अंतपुर दासी 851.11	महुँ	दानव सूची 783.13	मौंगदेय
कुलीन स्त्री 728.7	अंदर 999.17	राक्षस सूची 784.4	मौंगदेय 634.30 ⇌
भैस 127.19	महुअरी	महोदर [महोदरी]	मौंगदेय झ्राफ्ट
राजा. पत्नी 882.17	तूँबा 461.57	उन्नतोदर 158.29	बैंक झ्राफ्ट 631.11
स्वयं रानी 882.19	महुआ	महोदरी	मौंगना
महिष	काष्ठ सूची 597.2	भगवती 774.59	प्रयोजन होना 508.5
ज्येष्ठ 229.25	महुआ 190.31 ⇌	महोदार	प्रार्थना करना 350.11
महिष्मती राजा	महुआ: मद्य 209.13	दानवीर 641.28	मिक्षा मौंगना 642.15
कार्तवीर्य 769.31	महुआ: मद्य 209.13 ⇌	महोद्यम	माल मौंगना 660.16
महिसुर	महुआरी	महान प्रयत्न 489.2	मूल्य निवेदन करना 664.21
ब्राह्मण 731.13	महुआरी 12.25 ⇌	महोन्नत	याचना करना 642.14
मही	महूरत	अत्युच्च 982.10	लालसा करना 359.14
पृथ्वी 9.1	मुहूर्त 49.10	उच्चतम 982.8	मौंगने निकलना
भूखंपति 824.11	महेंद्र	उत्तम 313.13	मिक्षाटन करना 642.16
मट्ठा 193.10	इंद्र 773.5	महोपाध्याय	मौंगने बाला
महीतल	विष्णु 768.1	महा विद्वान 319.3	मिक्षुक 642.5
सपूर्ण धरातल 25.1	महेंद्र पर्वत	महोर्मि	याचक 642.19
महीधर	पौराणिक पर्वत सूची 17.8	ऊँची लहर 1040.19	मौंग पट्टी
पर्वत 16.3	महेंद्री	महोला	केश संवरण 223.4
पृथ्वीधर 9.2	शची 774.89	बहाना (मकर) 495.4	शृंगार 222.1
विष्णु 768.1		महीज	सीमंत भाग 223.19
		तेजस्वी 839.9	

मांग पत्र  
आयाचन पत्र 1055.6  
मांग पर  
याचिततः 642.22  
मांग पूर्ति  
मांग पूर्ति 656.5 ⇌  
मांग पूर्ति करना  
मांग पूर्ति करना 656.14 ⇌  
मांग पूर्ति कर्ता  
मांग पूर्ति कर्ता 656.6 ⇌  
मांग फूल  
टीका 228.14  
मांग भराई  
सिंदूर दान 800.49  
मांगलिक  
कल्याणकारी 710.21  
कल्याण सूचक 710.22  
नांदी पाठक 468.22  
मंगल ध्वनि कर्ता 796.9  
मांगलिक गीत  
मंगल गीत 796.15  
मांगलिकता  
कल्याणकारिता 710.3  
मांगल्य  
कल्याण 710.2  
कल्याणकारी 710.21  
मांगल्य कामा  
गोरोचन 274.19  
मांग होना  
मांग होना 656.13 ⇌  
मांगा [माँगी]  
आयाचित 1055.16  
याचित 642.18  
मांगे  
याचिततः 642.22  
मांगे का  
उधार (संपत्ति) 624.18  
मांगना  
घ्याप्त होना 981.8  
मांगना  
अभ्यास करना 303.11  
माजित करना 218.25  
मांगने वाला  
मार्जक 218.39  
माँजा  
पतंग डोरः माँजा 569.1  
माँ जाई  
सगी बहन 723.19  
माँ जाया  
सगा भाई 723.18  
माँ जाया [माँ जाई]  
सहोदर 723.27  
माँ जैसी  
मातातुल्य 720.22  
माँझ  
अंदर 999.17  
माँझा  
पतंग डोरः माँजा 569.11

माँझी [माँझन]  
नायिक 1080.21  
माँझीगीरी  
नौकायन 1080.1  
माँठी  
मठरी 200.29  
माँड  
माँडाई 195.14  
माँड 208.17 ⇌  
माँड 457.39 ⇌  
स्टार्च 179.11  
माँड़ना  
दौरी करना 548.40  
माँड़ना 195.48 ⇌  
माँड़ना  
माँड़ना 195.46  
माँडल  
क्षेत्रीय 34.14  
माँडलिक  
क्षेत्र स्तरीय 35.2  
क्षेत्रीय 34.14  
जनपद समूह प्रसासक 891.6  
परिधीय 972.16  
माँडलिकता  
क्षेत्र स्तरीयता 35.1  
माँडवी  
भरतः पत्नी 770.41  
माँडवी 770.45 ⇌  
माँडा  
विवाह मंडप 802.29  
माँडी  
कलफ़ 220.22  
माँड 208.17  
स्टार्च 179.11  
माँडक्य उपनिषद  
उपनिषद सूची 740.13  
माँड  
अभिमंत्रण कर्ता 758.7  
मंत्र पाठी 749.15  
मन्त्रीय 741.21  
माँडिक  
अभिमंत्रण कर्ता 758.7  
तंत्र सायक 758.4  
प्रेत सायक 759.13  
मंत्र पाठी 749.15  
मन्त्रीय 741.21  
माँद  
अतेजस्वी 839.10  
अप्रबल 488.14  
अबलिष्ठ 159.12  
क्षमताहीन 488.15  
धुंघला [धुंघली] 286.17  
पशुः पानी का हौज 18.16  
प्रशामित 372.10  
बिल 603.7  
बुझा [बुझी] 108.18  
मंद 1045.10  
माँद 803.9 ⇌

स्फूर्तिहीन 492.14  
माँदगी  
आलस्य 490.5  
थकान 492.4  
मंदता 1045.1  
माँदर  
मृदंग 461.72  
माँदा [माँदी]  
अतेजस्वी 839.10  
अप्रबल 488.14  
अबलिष्ठ 159.12  
कुठित 270.24  
क्षमताहीन 488.15  
धुंघला [धुंघली] 286.17  
प्रशामित 372.10  
बुझा [बुझी] 108.18  
मंद 1045.10  
रोगी 162.3  
स्फूर्तिहीन 492.14  
माँद .  
अतेजस्विता 839.6  
माँदाताः पुत्र  
मुधुकुंद 771.78  
माँ बहन  
परिवार स्त्रियाँ 726.10  
माँदा (अँ)  
सर्प सूची 123.16  
माँ बाप  
पिता माता 717.1  
माँ बेटा [माँ बेटा]  
माता पुत्र [माता पुत्री] 717.3  
माँ बेटा  
परिवार स्त्रियाँ 726.10  
माँस  
खाद्य मांस 206.11  
माँस 132.1 ⇌  
माँस आहार  
माँस पदार्थ 206.1  
माँसः काट  
माँस खंड 206.25  
माँसकारी  
रुधिर 31.1  
माँस खंड  
माँस खंड 206.25 ⇌  
माँसप  
पिशाच जाति 732.7  
माँस पदार्थ  
माँस पदार्थ 206.1 ⇌  
माँस पिंड  
माँस पिंड 132.2 ⇌  
शरीर 139.1  
माँसपेशी  
स्नायु 131.13  
माँसभक्षी  
असुर दानव दैत्य शक्त 783.2  
साभिवाहारी 205.4  
माँसभोजी  
पिशाच 786.8

माँस बच्छी  
खाद्य मांस 206.11  
साभिष आहार 205.2  
माँस नुरगी  
साभिष आहार 205.2  
माँसयुक्त  
माँसयुक्त 132.18 ⇌  
साभिष 205.3  
माँसयुक्तता  
साभिषता 205.1  
माँसयुक्त बोटी  
माँसयुक्त हड्डी (बोटी) 206.27  
माँसयुक्त हड्डी (बोटी)  
माँसयुक्त हड्डी (बोटी) 206.27 ⇌  
माँसल  
माँसयुक्त 132.18  
माँसल 154.33 ⇌  
माँसीय 132.17  
स्थूलकाय 154.29  
माँसलता  
माँसलता 154.12 ⇌  
माँस विक्रेता  
माँस विक्रेता 206.41 ⇌  
माँस व्यंजन  
माँस व्यंजन 206.30 ⇌  
माँस सार  
वसा 132.4  
माँस स्नेह  
वसा 132.4  
माँसहीन  
निरामिष 204.4  
माँसहीन 132.19 ⇌  
माँसहीनता  
निरामिषता 204.1  
माँसहीन भोजन  
निरामिष आहार 204.2  
माँसाहार  
साभिष आहार 205.2  
माँसाहारिता  
साभिषता 205.1  
माँसाहारी  
साभिषहारी 205.4  
माँसिक  
माँसीय 132.17  
माँसीय  
माँसीय 132.17 ⇌  
साभिष 205.3  
माँसोपन  
बिरियानी 202.4  
माँह  
अंदर 999.17  
मा  
नहीं 338.51  
मध्यम स्वर 459.10  
माता 717.7  
माइक (बीज रूप) (अँ)  
माइक्रोफोन 300.8

## माइका (अँ)

माइका (अँ)	पर्याप्त 941.6	माघी	पराजित 913.5
अभ्रक 283.16	योग्य 303.14	मक्खी 122.37	माला 717.7
माइक्रोक्रोन	संगत 438.6	माजर	मात करना
माइक्रोक्रोन 300.8 ⇌	माकुलियत	घटना 75.1	जीतना 912.12
माइक्रोक्रोन (अँ)	संगतता 438.1	विषय 437.7	मात खाना
माइक्रोक्रोन 300.8	माक्षिक	वृत्तांत 449.14	पराजित होना 913.3
माइक्रोव (अँ)	मधु 280.9	माजी	मात देना
सूक्ष्माणु 122.2	सोनामाखी 92.11	पारसी धर्माधिकारी 744.37	जीतना 912.12
माइक्रोवेव ओवन	माक्षिक धातु	माजून	मातम
माइक्रोवेव ओवन 109.17 ⇌	माक्षिक धातु 92.9 ⇌	अवलेह 176.12	मृत्यु शोक 253.14
माइक्रोवेव ओवन (अँ)	सोनामाखी 92.11	माजून 176.22 ⇌	रुदन 386.1
माइक्रोवेव ओवन 109.17	माक्षिक मल	माट	शोक 383.1
माइक्रोवेव कुकिंग	मोम 110.22	दही घडा 679.10	मातम अंगीज
माइक्रोवेव कुकिंग 195.38 ⇌	माख (संक्षिप्त)	मिट्टी 100.8	शोकप्रद 383.9
माइक्रोवेव कुकिंग (अँ)	माख संख्या 1042.7	माटी	मातमकवा
माइक्रोवेव कुकिंग 195.38	माख नंबर (अँ)	जड़ पदार्थ 78.5	मृत्यु शोकगृह 253.16
माइक्रोस्कोप (अँ)	माख संख्या 1042.7	मिट्टी 100.8	मातम करना
खुर्दबीन 283.5	माखन चौर	शरीर 139.1	मृत्यु शोक करना 253.33
माइन (अँ)	कृष्ण 771.1	शव 254.1	मातमप्रावा
खान 92.14	बालकृष्ण 771.4	माटी के मोल	मृत्यु शोकप्रस्त 253.39
बारूदी सुरंग 927.23	माख संख्या	अल्पमूल्यतः 664.39	मातमवार
माइनर (अँ)	माख संख्या 1042.7 ⇌	माटीय	मृत्यु शोकप्रस्त 253.39
खनिक 92.18	माखी	माटीय 100.25 ⇌	मातमपुरसी
माइनर ऐलिमेंट (अँ)	मक्खी 122.37	माटीय रंग	मृत्यु संवेदना 253.17
अप्रधान तत्त्व 1008.7	मधुमक्खी 122.39	खनिज रंग 290.2	मातमसरा
माइनरिटी (अँ)	मागध	माठ	मृत्यु शोकगृह 253.16
अल्पमत 343.4	घारण 841.13	मठरी 200.29	मातमी
माइन स्वीपर (अँ)	जरासंध 771.58	माठर	मृत्यु शोकप्रस्त 253.39
सुरंगमेदी 927.24	प्रशंसा गायक सूची 841.12	वेद ख्यास 789.21	शोकपूर्ण 383.7
माइनिंग (अँ)	मागधी	माडल (अँ)	मातर
खनि कर्म 92.17	धीनी 280.16	पुतला 406.5	मातृसत्ता प्रमुख 688.6
माइम (अँ)	जूही 14.18	प्रारूप 520.8	मातरिच्छा
मूक अभिनय 464.11	प्राकृत सूची 421.9	माड़ी	वायु 85.1
मूक अभिनेता 464.12	मागी	छोटा मठ 745.8	मातलि
माई	पारसी धर्माधिकारी 744.37	बुनी चौकी 595.18	इंद्रः सारथी 773.8
गृह देवी 772.26	माघ	माणव	मातलिसारथी
देवी 774.49	भारतीय मास सूची 43.6	सोलह लकीः मोती माला 228.44	इंद्र 773.5
परिचारिका 651.29	माघ 43.17 ⇌	माणवक	मातहत
माला 717.7	माघ कृष्ण चतुर्थी	ब्रह्मचारी 234.4	अधीनस्थ 652.40
विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.6	संकट चौथ 57.28	मूर्ख व्यक्ति 302.2	अधीनस्थ कर्मचारी 652.33
माई का लाल	माघ शुक्ल चतुर्थी	माणविका	आयोजन में 655.25
वीर पुरुष 396.2	गणेश चतुर्थी 57.5	किशोरी 230.29	मातहती
माई बाप	माघ शुक्ल पंचमी	माणिक	अधीनस्थता 652.32
भृति भर्ता 650.29	वसंत पंचमी 57.23	नवरत्न सूची 96.7	माता
माउज़	माघ	माणिक 96.22 ⇌	धेचक 163.9
माउज़ 951.17 ⇌	आखेट मंच 252.23	रत्न सूची 96.5	दुर्गा 776.7
माउज़ (अँ)	माधिस	माणिक्य	देवी 774.49
माउज़ 951.17	माधिस 107.7 ⇌	माणिक 96.22	माता 717.7 ⇌
माउन्टेनियर (अँ)	माधिसः डिबिया	मातंग	मातृका 774.68
पर्वतारोही 1087.7	माधिस पेटी 107.8	ऋषि मुनि सूची 789.17	मातृसत्ता प्रमुख 688.6
माउन्टेनियरिंग (अँ)	माधिस पेटी	किरात जाति 732.5	लक्ष्मी 775.1
पर्वतारोहण 1087.8	माधिस पेटी 107.8 ⇌	चांडाल 254.10	ललिता देवी 774.80
माकरेल	माधी	शक्षस सूची 784.4	शीतला 774.91
मेकरल 125.10	गाड़ीवान सीट 595.45	हाथी 127.38	सीता 770.86
माकूल	बुनी चौकी 595.18	मातंगी	मातातुल्य
उपयोगी 524.18	माछ	मातंगी 774.67 ⇌	मातातुल्य 720.22 ⇌
माकूल	मछली 125.1	मात	माता पक्ष
तर्कपूर्ण 325.21		पराजय 913.1	माता पक्ष 722.29 ⇌



माता पुत्र [माता पुत्री]	मातृ मंडल	मात्रिक गण सूची	माया कबूतर
माता पुत्र [माता पुत्री] 717.3 ⇌	त्रिकुटी 140.13	मात्रिक गण सूची 452.45 ⇌	माया कबूतर 128.17 ⇌
माता मरियम	मातृवत्-	मात्रिक छंघ	माया कुता
मरियम 791.19	मातातुल्य 720.22	मात्रिक छंघ 452.3 ⇌	माया कुता 127.72 ⇌
मातामह	मातृसत्ता	माथ	माया कौरा
माता 722.30	मातृसत्तात्मक समाज 688.5	मथन 554.12	किंबाणु 130.7
मातामही	मातृसत्तात्मक समाज	मसलाई 541.2	माया गथा
मानी 722.31	मातृसत्तात्मक समाज 688.5 ⇌	मस्तक 140.12	माया गथा 127.31 ⇌
मातायुक्त	मातृसत्ता प्रमुख	माथा	माया गीवड
मातायुक्त 719.8 ⇌	मातृसत्ता प्रमुख 688.6 ⇌	उच्चता: उपमान सूची 982.13	माया गीवड 127.76 ⇌
माता विषयक	मातृस्थानीय	नीकाम्र 1073.23	माया घोडा
माता विषयक 717.13 ⇌	अभिमाता 720.13	प्रारब्ध लेख 260.6	माया घोडा 127.36 ⇌
माताहीन	मातृहीन	मस्तक 140 12	माया चकवा
माताहीन 719.7 ⇌	माताहीन 719.7	माथा टनकना	माया चकवा 126.32 ⇌
माताहीनता	मातृहीनता	आशंकित होना 377.5	माया चकोर
माताहीनता 719.3 ⇌	माताहीनता 719.3	माथापच्छी	माया चकोर 126.34 ⇌
मातृ	मातेश्वरी	माथापच्छी 321.31 ⇌	माया चूडा
माता 717.7	दुर्गा 776.7	माथा: विंदी	चुडिया 127.61
मातुल	मरियम 791.19	माथा: विंदी 225.13 ⇌	माया तोता
माता 722.40	माता 717.7	माथे	माया तोता 126.45 ⇌
मातुल पक्ष	मात्र	दायित्व पर 895.14	माया पक्षी
मातई 801.8	मात्र 946.19 ⇌	माथे की विंदी	माया पक्षी 126.2 ⇌
मातुला	मात्रा में 946.22	पति 803.5	माया बंदर
मामी 722.42	मात्र एक	माथे मैदना	माया बंदर 127.87 ⇌
मातुलानी	एकमात्र 946.20	मिथ्या आरोप लगाना 875.23	माया बकरी
मामी 722.42	मात्र कुछ	माव	बकरी 127.22
मातुली	अत्यल्प 942.16	अभिमान 858.1	मावाम (का)
मामी 722.42	मात्रता	मावक	विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.0
मातुलेय	मात्रता 946.9 ⇌	मावक 211.12 ⇌	मावा मुरगा
ममिया 722.50	मात्रा	मावकता	मुरगी 126.64
मातृ	औषध मात्रा 176.6	मावकता 211.5 ⇌	मावा मोर
माता विषयक 717.13	कितनापन 946.1	मावक ब्रह्म	मावा मोर 126.69 ⇌
मातृसत्ता प्रमुख 688.6	छंद मात्रा 452.38	मदध्य 212.1	मावा सर्प
मातृका	ताल मात्रा 458.34	मावक ब्रह्म विषेध	मावा सर्प 123.11 ⇌
काली 776.3	नियत मात्रा 946.4	पंथरील सूची 737.12	मावा सिंह
कृत्तिका 774.30	मात्रा 946.3 ⇌	मावक पदार्थ	मावा सिंह 127.51 ⇌
गृह देवी 772.28	संगीत मात्रा 458.21	मदध्य 212.1	मावा सुअर
दादी 722.6	स्वर मात्रा 410.14	मावन	मावा सुअर 127.82 ⇌
दुर्गा 776.7	मात्रा: अनुपात	कामदेव 773.12	मावा हंस
देवी 774.1	अनुपात 947.9	मावक 211.12	मावा हंस 126.77 ⇌
घाय में 720.2	मात्रासीत	लींग 281.30	मावा हथ्थी
मातंगी 774.67	असंख्य 944.8	वसंतोन्माद 354.10	मावा हाथी 127.39 ⇌
माता 717.7	मात्रासीतता	मावर	मावा हिरन
मातृका 774.68 ⇌	असंख्यता 944.3	माता 717.7	मावा हिरन 127.43
माहेश्वरी 774.72	मात्रा परिभाषा	मावरजाव	मावा
सीतेली माता 717.11	इतनापन 946.2	सगा भाई 723.18	जड़ जगत 78.3
मातृका श्रेष्ठ	मात्रा में	सहोदर 723.27	शब्द धातु 423.9
देवसेना 774.47	मात्रा में 946.22 ⇌	मावरजाव रंगा	संघटक 545.3
मातृ कुल	मात्रा में अनियत	नग्न 590 16	माव्री
माता पक्ष 722.29	मात्रा में अनियत 946.18 ⇌	मावरी	कृष्ण: आठ पत्नी सूची 771.12
मातृ प्रथि	मात्रा में नियत	आनुवंशिक 727.39	पांडु: पत्नी सूची 771.72
मातृ प्रथि 352.10 ⇌	मात्रा में नियत 946.17 ⇌	मादरे बतन	माव्री नंदन
मातृतुल्य	मात्रा वृत्त	स्वदेश 34.12	नकुल सहदेव 771.69
मातातुल्य 720.22	मात्रिक छंद 462.3	मादा	माव्रीय
मातृ पक्ष	मात्रिक	मादा 236.22 ⇌	नकुल सहदेव 771.69
माता पक्ष 722.29	मात्रिक 452.55 ⇌	मादा ऊँट	माधव
मातृ भूमि	मात्रिक गण	मादा ऊँट 127.28 ⇌	कृष्ण 771.1
स्वदेश 34.12	मात्रिक गण 452.44 ⇌		महुआ 190.31

## माधवी

वसंत काल 52.1  
विष्णु 768.1  
वैशाख 43.8

**माधवी**  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
जूही 14.18  
तुलसी 13.9  
दुर्गा 776.7  
योग माया 771.82  
वसुंधरा 774.82

**माधुर**  
मीठा [मीठी] 280.30

**माधुरी**  
मद्य 209.1  
मिठास 280.1

**माधुर्य**  
मिठास 280.1  
रूप माधुर्य 157.4  
सुरीलापन 459.34

**माधुर्यपूर्ण**  
माधुर्यपूर्ण 157.9 ⇨

**माधी**  
कृष्ण 771.1

**माध्य**  
मध्य तलीय 985.15  
मध्यम 978.6  
मध्यमीय 996.6  
मध्यवर्ती 996.7

**माध्यम**  
कला विद्या 397.13  
मध्यम 978.6  
मध्यवर्ती 996.7  
सायन 558.1

**माध्यमिक**  
मध्यम 978.6  
मध्यम राष्ट्रीय 947.27  
मध्यम स्तरीय 313.18  
मध्यवर्ती 996.7

**माध्यमिकता**  
मध्यमता 978.2

**माध्यमिक दर्शन**  
छह नास्तिक दर्शन सूची 780.29

**माध्य समुद्र उत्तल**  
माध्य समुद्र उत्तल 985.7 ⇨

**माध्य समुद्र स्तर**  
माध्य समुद्र उत्तल 985.7

**माध्यस्थ**  
बिथीलिया 877.10  
बीच बचाव 877.9

**माध्यस्थ्य**  
बीच बचाव 877.9

**माध्य [माधी]**  
मीठा [मीठी] 280.30

**माध्य संप्रदाय**  
चार वैष्णव संप्रदाय सूची 737.51

**माधी**  
महुआ मद्य 209.13

**माधीक**  
महुआ मद्य 209.13

**मान**  
अभिमान 858.1  
क्रोध 373.1  
ख्याति 847.1  
प्रतिष्ठा 849.2  
भार माप 962.1  
मान कलह 374.4  
मानदंड 957.5  
माप 958.1  
सम्मान 854.3  
स्वाभिमान 858.3

**-मान [-मती]**  
सहित. प्रत्यय सूची 1006.5

**मान अनुसार नायिका सूची**  
मान अनुसार नायिका सूची 456.7 ⇨

**मानक**  
मानक 957.1 ⇨  
मानदंड 957.5  
विशिष्ट लक्षण 317.8

**मानक निरूपण**  
मानकीकरण 957.2

**मानक मार्क**  
गुणवत्ता मार्क 621.18

**मानकयुक्त**  
मानकयुक्त 957.7 ⇨

**मान करना**  
मान करना 374.12 ⇨  
रूठना 374.11

**मानक लक्षण**  
विशिष्ट लक्षण 317.8

**मान कलह**  
मान कलह 374.4 ⇨

**मानक संस्थान**  
मानक संस्थान 957.3 ⇨

**मानक समय**  
मानक समय 50.6 ⇨

**मानकहीन**  
अमानक 957.8

**मानकीकरण**  
मानकीकरण 957.2 ⇨

**मानकीकृत**  
मानकयुक्त 957.7

**मान केलि**  
मान कलह 374.4

**मान गृह**  
मान गृह 374.5 ⇨

**मानधित्र**  
मानधित्र 10.17 ⇨

**मानधित्र पुस्तक**  
एटलस 10.19

**मानधित्रिका**  
एटलस 10.19

**मान जाना**  
सहमत होना 337.11

**मानता**  
मन्नत 361.3

**-मानता (हिंदी)**  
सहितता 1006.1

**मानदंड**  
मानदंड 957.5 ⇨  
समीक्षा: मापदंड 398.4

**मानबा**  
चंद्र कला सूची 8.4

**मान दान**  
सम्मान उपहार 854.4

**मानधन**  
शिव 767.1

**मान न मान**  
विवशतः 901.13

**मानना**  
अपराध स्वीकार करना 876.23  
आज्ञा पालन करना 347.11  
उत्सव मनाना 56.7  
कल्पना करना 308.10  
प्रसन्न होना 381.4  
मन्नत मानना 361.9  
मानना 849.14 ⇨  
सम्मान करना 854.16  
स्वीकृति देना 337.10

**माननीय**  
मान्य 849.20  
सम्मान्य 854.20

**माननीयता**  
मान्यता 849.7

**मानने वाला**  
मतयुक्त 343.12

**मान पत्र**  
अभिनंदन पत्र 854.10

**मान प्रतिष्ठा**  
मान प्रतिष्ठा 849.1 ⇨

**मान भंग**  
मानहानि 855.3

**मान भरी**  
मानवती 374.18

**मान मंदिर**  
मान गृह 374.5  
वेधशाला 1.7

**मान मनुहार**  
रूठारूठी 374.1

**मान मनीअल**  
रूठारूठी 374.1

**मान मनीती**  
मन्नत 361.3

**मान मनीवल**  
रूठारूठी 374.1

**मान मर्दक**  
अभिमान मर्दक 911.13

**मान मर्दित**  
अभिमान मर्दित 911.12

**मान मर्दावा**  
मान प्रतिष्ठा 849.1

**मान मोचन**  
मनुहार 374.6

**मानरंधा**  
जलघड़ी 50.17

**मान लेना**  
कल्पना करना 308.10  
सहमत होना 337.11

**मानव**  
पुरुष 236.12  
मनु संतति 788.3  
मानव 128.1 ⇨  
वानर विकास क्रम 127.94

**मानव अरथित**  
मानव अरथित 528.9 ⇨

**मानव अरथितता**  
मानव अरथितता 528.3 ⇨

**मानव कर्म दृष्टा देवता**  
कर्मसाक्षी देवता 772.17

**मानवकाय**  
मानवकाय 154.27 ⇨

**मानव कृत धर्मग्रंथ**  
पौरुषेय धर्मग्रंथ 738.4

**मानव घात**  
मानव घात 251.10 ⇨

**मानव चालन**  
मानव चालन 1046.3 ⇨

**मानव चालित**  
मानव चालित 1046.26 ⇨

**मानव चालित होना**  
मानव चालित होना 1046.17 ⇨

**मानव जाति**  
मानव जाति 128.2 ⇨

**मानवता**  
मानव जाति 128.2  
मानवीयता 733.3

**मानवती**  
मानवती 374.18 ⇨

**मानव दानव**  
विपरीतता: उपमान सूची 310.13

**मानव द्वेषी**  
मानव द्वेषी 709.10 ⇨

**मानव धर्म**  
मानवीयता 733.3

**मानव धर्म शास्त्र**  
मनु स्मृति 740.56

**मानव निर्मित**  
मानव रचित 527.19

**मानव निर्मित उपग्रह**  
कृत्रिम उपग्रह 1075.12

**मानव निर्मितता**  
मानव रचितता 527.5

**मानव प्रेम**  
मानव प्रेम 368.7 ⇨

**मानव रचित**  
मानव रचित 527.19 ⇨

**मानव रचितता**  
मानव रचितता 527.5 ⇨

**मानव रुचि सामान्य तापक: 0901**  
फ़िरेनहाइट: तालिका 103.6

मानव कविर सामान्य तापंक: 36.00	मानसिक आघात	सादर्य: उक्ति सूची 309.26	मान्यवर
सैन्सियस: तालिका 103.8	मनोघात 354.3	मानिक	पत्राक्ष: संश्लेषण आदि सूची 444.41
मानव बध	मानसिकता	माणिक 96.22	मान्य होना
मानव घात 251.10	मनोवृत्ति 351.7	मानिक रेत	मान्य होना 849.13 ⇌
मानव शक्ति यान (अनुवाद)	स्यभाव 836.4	कोरंडम 92.7	माप
रिक्शा 1071.52	मानसिक पीका	मानित	आकार माप 961.1
मानव संसाधन	मनोव्यथा 391.7	सम्मानित 854.19	मात्रा 946.3
जन बल संपत्ति 624.13	मानसिक भाव	स्वीकृत (अपराध) 876.27	माप 958.1 ⇌
मानव हत्या	भाव 358.1	मानिनी	लंबाई माप 958.12
मानव घात 251.10	मानसिक रोग	मानवती 374.18	मापक
मानवान [मानवती]	मनोरोग 354.1	मानी	मानदंड 957.5
रुष्ट 374.17	मानसिक विकार	अर्थ 426.1	मापक 958.58 ⇌
मानयिद	मनोविकार 353.1	मतयुक्त 343.12	मापने वाला 959.61
अधिवानर 127.90	मानसिक शक्ति	हत्या: छिद्र 271.8	मापी 958.3
मानयी	मनोबल 394.4	मानी [मानिनी]	मापक टेप
मनु पत्नी 788.2	मानसिक शक्ति	अभिमानी 858.10	मापक टेप 959.6 ⇌
मानयीय 128.11	प्रशमता 372.2	रुष्ट 374.17	माप कर्म
स्त्री 236.3	मानसिक हिंसा	मानुष	मापन 958.2
मानयीय	मानसिक हिंसा 251.17 ⇌	मानव 128.1	मापजोख
मानव रचित 527.19	मानसिकी (म)	मानवीय 128.11	क्षेत्र मापन 599.17
मानयीय 128.11 ⇌	मनोविज्ञान 352.1	मानुषिक	मापन 958.2
मानवीय 733.14 ⇌	मानसी	मानयीय 128.11	मापतील
मानवीयता	स्त्री 236.3	मानुषिकता	मापन 958.2
मानयीयता 733.3 ⇌	मानसी काव्य	मानवीयता 733.3	मापदंड
मानयीयतापूर्ण	आशु कविता 451.18	मानुषी	मापी 958.3
मानयीय 733.14	मानसी काव्य क्रिया	मानवीय 128.11	समीक्षा: मापदंड 398.4
मानयेंद्र	चीसठ कला सूची 397.4	स्त्री 236.3	मापन
महापुरुष 839.3	मानसूत्र	मानुष्य	क्षेत्र मापन 599.17
राजा 882.6	करघनी 228.7	मानवीय 128.11	मापन 958.2 ⇌
मानयेतर प्राणी	पैमाइशी टेप 571.21	मानुस	ऐच्छिक मापन 959.2
अमानव 772.38	मानसून	मानव 128.1	ऐच्छिक मापी 959.3
मानयोधित	मानसून 85.16 ⇌	व्यक्ति 689.1	मापन उपकरण
मानवीय 733.14	वर्षा काल 54.1	माने	मापी 958.3
मानयोधितता	मानहानि	अर्थात् 426.41	मापना
मानवीयता 733.3	मानहानि 855.3 ⇌	प्रयोजन 508.1	मापना 958.55 ⇌
मानस	मानहानि करना	मानों	मापना 959.60 ⇌
काल्पनिक 308.18	मानहानि करना 855.7 ⇌	सादर्य: उक्ति सूची 309.26	मापने वाला
जीवनी 450.20	मानहानि कारक	मानो	मापने वाला 959.61 ⇌
मन 351.2	मानहानिपूर्ण 855.14	सादर्य: उक्ति सूची 309.26	माप सही होना
रामचरित मानस 770.15	मानहानिपूर्ण	मान्य	सही आकार होना 961.15
व्यक्ति 689.1	मानहानिपूर्ण 855.14 ⇌	आदरणीय 854.18	मापा [मापी]
मानसचारी	मानहीन	कूजनीय 751.24	मापित 958.57
हंस 126.76	अप्रतिष्ठित 850.5	मान्य 849.20 ⇌	मापातील
मानस जप	मानहुँ	वैद्य 878.26	अमान्य 958.60
अजपा जप 749.5	सादर्य: उक्ति सूची 309.26	सम्मान्य 854.20	मापित
मान सम्मान	माना [मानी]	मान्यता	मापित 958.57 ⇌
मान प्रतिष्ठा 849.1	तुष्ट 374.20	धर्म 735.1	मापित्र
मानस यज्ञ	प्रतिष्ठित 849.15	धारणा 343.7	मापी 958.3
अजपा जप 749.5	मनाया [मनाई] 374.19	प्रतिष्ठा 849.2	मापी
यज्ञ सूची 753.2	मान्य 849.20	मत 343.1	मापी 958.3 ⇌
मानस शास्त्र	सहमत 337.19	मान्यता 849.7 ⇌	माफ़
मनोविज्ञान 382.1	स्वीकृत (अपराध) 876.27	वाद 343.10	आदान मुक्त 839.23
मानसिक	माना जानां	द्वैजता 878.14	क्षमाप्राप्त 872.12
बुद्धीय 301.20	मान्य होना 849.13	श्रद्धा 340.5	माफ़ करना
मानसिक 351.8 ⇌	मानापन	मान्यता देना	आदान मुक्त करना 639.14
स्त्राभायिक 836.11	मान्यता 849.7	अनुसमर्थन करना 337.14	क्षमा करना 872.6
मानसिक अस्तुलन	मानिद	मान्यताहीन	प्राण क्षमा करना 250.11
पागलपन 354.14	सदर्य 309.20	मतहीन 344.11	

## माफिक्र

### माफिक्र

अनुकूल 866.37  
अनुसार 514.26

### माफिक्र

कल्याणकारी 710.21

### माफिक्र

सदुरय 309.20  
सहमत 337.19  
सादुरयः उक्ति सूची 309.26

### माफिक्र

हितकारी 712.13

### माफिक्र ज्ञाना

कल्याणकारी होना 710.14

### माफिक्र ज्ञाना

कल्याणकारी होना 710.14

### माफिक्र

अपराध मुक्ति 869.4  
आवाग मुक्ति 839.6

क्षमा 872.1

प्राण क्षमा 260.2

भूमि वाग 641.15

लगानमुक्त कृषि 553.4

### माफिक्रवार

दानप्राही 641.25

लगानमुक्त कृषि धारी 553.5

### माफिक्रनामा

क्षमापत्र 872.3

### माफिक्रला

घटना 75.1

परिस्थिति 69.5

मुक्तदमा 875.1

विषय 437.7

संदर्भ 437.3

समस्या 333.11

### माफिक्रलात

घटना चक्र 75.4

### माफिक्रलाबानी

व्यवहार कुरालता 826.3

### माफिक्रस

मीलस 724.19

### माफिक्रमा

माता 717.7

माता 722.40 ⇨

### माफिक्र (बोलचाल)

पुलिस कर्मी 866.3

### माफिक्र कंस

कंस 771.46

### माफिक्र परिहार

भारतई 801.8

### माफिक्र सत्तुर

मीलसरा 724.18

### माफिक्रानी

अपराध अस्वीकृति 876.10

माफी 722.42 ⇨

### माफिक्रान्त

मीलस 724.19

### माफिक्रल

दलाल शुल्क 659.5

नेग 640.7

प्रथा 795.9

रिश्तत 865.9

विधि (क्रान्त) 878.1

सामान्यता 311.1

हिप्नोटिज्म 758.30

हिप्नोटिज्मः पात्र 758.31

### माफिक्रली

अनलंकृत 227.5

असुंदर 166.3

गीरवहीन 850.6

नगण्य 853.10

सामान्य 311.3

### माफिक्रली तीर पर

प्रायः 73.7

### माफिक्रदी

अंबर 999.17

### माफिक्रय

असुर 783.6

पीला वस्त्र 578.21

माता 717.7

माया 762.9

मायावी 762.17

### माफिक्रयक

मायावी 762.17

### माफिक्रका

पीहर 601.8

माता पक्ष 722.29

### माफिक्रके गमन

अहोरा बहोरा 800.3

पैर किराई 800.23

### माफिक्रना

अर्थ 426.1

### माफिक्रयने

प्रयोजन 508.1

### माफिक्रय प्रणाली

शतम लघ प्रणाली 950.10

### माफिक्रयल

अवगमित 1025.8

सादुरयमासित 309.21

### माफिक्रयान

अज्ञान 306.1

अवास्तयिकता 821.9

आसक्ति 365.1

करतब 506.7

गृहासक्ति 235.7

छल 827.7

जादू 474.2

जादू प्रभाव 474.10

दिव्यास्त्र सूची 928.2

दुर्गा 776.7

धन संपत्ति 624.10

नवराक्ति सूची 776.19

प्रज्ञा 774.53

भगवती 774.59

भ्रम 342.1

ममता 721.2

माया 762.9 ⇨

मायावी दुरय 312.8

लक्ष्मी 775.1

लीला 506.8

वशीकरण विद्या 758.20

विषय दासना रूपी अज्ञान 761.2

सम्मोह 367.1

सम्मोहकता 367.3

### माया (दे.)

प्रकृति 762.1

### मायाकार

तिलिस्मगर 474.14

### मायाग्रस्त

जादुकृत 474.37

सम्मोहित 367.6

### माया जाल

गृहासक्ति 235.7

तिलिस्म 474.13

माया दर्शन 342.4

### माया वर्पण

जादुई वर्पण 474.25

### माया वरान

माया वरान 342.4 ⇨

### मायावर्षी चूर्ण

जादुई बुकनी 474.27

### माया वैबी

बुद्धः माता 793.8

माया वैबी 793.13 ⇨

### माया वैबीः पुत्र

गीतम बुद्ध 793.1

### माया विमित

जादुई 474.36

### मायापदु

मायावी 762.17

### माया पाषा

सम्मोह 367.1

### मायापूर्ण

मायापूर्ण 762.18 ⇨

### माया प्रबोग

जादुगारी 474.9

### मायाबद्ध

वशीकृत 758.41

सम्मोहित 367.6

### माया मणि

जादुई रत्न 474.29

### माया ममता

ममता 721.2

स्वजन भावना 725.2

### मायामय

मायापूर्ण 762.18

लीला कर्ता 506.11

सम्मोहनपूर्ण 367.7

### माया मोह

गृहासक्ति 235.7

स्वजन भावना 725.2

### माया शोक

इहलोक 258.11

### मायावली

असुर स्त्री सूची 783.9

### मायावली (पुनर्जन्म)

रति 774.78

### मायावाव

मायावाव 760.23 ⇨

### मायावाग

कंस 771.46

### मायावाग [मायावली]

मायावी 762.17

### माया विद्या

जादू 474.2

### मायावी

अति प्राकृतिक 762.11

अवास्तयिक 821.20

ईश्वर 764.1

छली 827.24

जादुई 474.36

जादुगर 474.11

तिलिस्मगर 474.14

भुलहा [भुलही] 759.20

भग 791.18

मायापूर्ण 762.18

मायावी 762.17 ⇨

लीला कर्ता 506.11

सम्मोहन कर्ता 367.8

मायावी [मायाविनी]

मायावी 762.17

सम्मोहनपूर्ण 367.7

### मायावी बुरख

मायावी दुरय 312.8 ⇨

### मायावुत

गीतम बुद्ध 793.1

### मायाहीन

मायाहीन 762.18 ⇨

### मायाक

अति प्राकृतिक 762.11

मायापूर्ण 762.18

### मायाी

कामदेव 773.12

जादुगर 474.11

पारसी धर्माधिकारी 744.37

भुलहा [भुलही] 759.20

मायापूर्ण 762.18

### मायास

हतारा 376.6

### मायासी

उत्साह भंग 492.2

हतारा 376.2

### माय

आहति 188.1

कामदेव 773.12

ठोक 1051.15

प्रहार सीमा 918.2

भ्रम 368.1

मंगल ग्रह 7.7

माया 762.9

लक्ष्य केंद्र 931.7

वशीकरण विद्या 758.20

- सम्मोहकता 367.3  
**मारक**  
 माराक 531.8  
 निवारक 920.18  
 प्रभाष संवक 511.21  
 मारक 251.24 ⇌  
 मारण कर्ता 758.19  
 मारने वाला 251.26  
 विधाक्त 177.9  
 हत्या कर्ता 251.29  
**मारकता**  
 नाशकता 531.2  
 मारकता 251.2 ⇌  
**मारक प्रहार**  
 मारक प्रहार 918.6 ⇌  
**मार करना**  
 आक्रमण करना 914.13  
**मारक शस्त्र**  
 घातक शस्त्र 922.3  
**मारकाट**  
 मारकाट 905.25 ⇌  
 हिंसा प्रतिहिंसा 251.14  
**मारकाट लूटपाट**  
 कस्ती गारत 905.26  
**मारकीन**  
 मारकीन 580.36 ⇌  
**मारकूट**  
 हाथापाई 905.23  
**मारके का**  
 निर्णयात्मक 328.11  
 सफटप्रद 909.20  
**मार खाया [मार खाई]**  
 प्रहारित 918.30  
**मारगुर्जा**  
 फणधर सर्प 123.13  
**मारजित**  
 गौतम बुद्ध 793.1  
 शिय 767.1  
**मारण**  
 तत्र क्रिया सूची 758.5  
 धातु दहन 108.3  
 मारण 251.1 ⇌  
 मारण 758.18 ⇌  
**मारण (वे.)**  
 निमित्त हत्या 251.9  
 हत्या 251.5  
**मारण कर्ता**  
 मारण कर्ता 758.19 ⇌  
**मारण यंत्र**  
 मारण यंत्र 758.17 ⇌  
**मारणीय**  
 हतव्य 251.21  
**मारणेच्छुक**  
 मारणेच्छुक 251.25 ⇌  
**मारतील**  
 बड़ा हथौड़ा 559.40  
**मारधाक**  
 मारकाट 905.25
- हिंसा प्रतिहिंसा 251.14  
**मारना**  
 आखेट करना 252.28  
 चोरी करना 864.44  
 जीतना 912.12  
 धातु दहन करना 108.11  
 पिटाई करना 918.23  
 प्रहार करना 918.21  
 भुगतान न करना 839.11  
 मारना 251.18 ⇌  
 लक्ष्य वेधना 931.17  
 घघ करना 251.19  
 शस्त्र चलाना 930.5  
 मारने वाला  
 प्रहारक 918.31  
 मारने वाला 251.26 ⇌  
**मारपीट**  
 हाथापाई 905.23  
 हिंसा प्रतिहिंसा 251.14  
**मारप्रीन**  
 मारप्रीन 212.8 ⇌  
**मारप्रीन (अँ)**  
 मारप्रीन 212.8  
**मारप्रीन पायडर**  
 पाइडर 212.10  
**मारया**  
 राग रागिनी सूची 457.24  
**मारयाकी**  
 राजस्थानी 421.15  
**मारयाकी भोजन**  
 वैष्णव आहार 204.3  
**मारा [मारी]**  
 मारा [मारी] 251.23 ⇌  
**मारामार**  
 अत्यधिकता 944.2  
 जल्दबाजी 496.4  
 भागदौड़ 1084.16  
 सुलभता 943.2  
 हड़बड़ी 496.5  
 हाथापाई 905.23  
**मारामारी**  
 छीना झपटी 835.8  
 स्वार्थ साधन 712.6  
 हाथापाई 905.23  
 हिंसा प्रतिहिंसा 251.14  
**मारित**  
 दण्य (धातु) 108.17  
**मारिया (अँ)**  
 मरियम 791.19  
**मारिषा: पति**  
 शूरसेन 771.92  
**मारी**  
 महामारी 163.7  
**मारीच**  
 मारीच 784.8 ⇌  
 राक्षस सूची 784.4  
**मारीची**  
 माया देवी 793.13
- मारीवाना (अँ)**  
 गौजा 212.4  
**मारुत**  
 प्राण तत्त्व 245.1  
 वायु 85.1  
 श्वास 245.4  
**मारुति**  
 भीम 771.76  
 हनुमान 781.19  
**मारु**  
 नगाड़ा 461.58  
 पिटैल 918.35  
 मारक 251.24  
 युद्ध उका 907.21  
 राग रागिनी सूची 457.24  
 विधाक्त 177.9  
**मारुपन**  
 मारकता 251.2  
**मारुल्ल [मारुल्ला]**  
 उध्यात 847.3  
**मारे**  
 कारणतः 507.7  
 संबंधतः 715.14  
**मारे जाना**  
 हत होना 249.19  
**मारे मारे फिरना**  
 मार्ग न मिलना 1099.6  
**मार्कडेय**  
 ऋषि मुनि सूची 789.17  
**मार्कडेय पुराण**  
 पुराण सूची 740.17  
**मार्क (अँ)**  
 धिहन 407.1  
**मार्कर**  
 मार्कर 1074.28 ⇌  
**मार्कर (अँ)**  
 धिहिनत्र 407.3  
 मार्कर 1074.28  
**मार्का**  
 ट्रेडमार्क 821.17  
 व्यापार धिहन 408.3  
**मार्किंग (अँ)**  
 अंक प्रदान 322.22  
 धिहनन 407.2  
**मार्केट (अँ)**  
 बाज़ार 863.1  
**मार्केटिंग (अँ)**  
 विपणन 658.1  
**मार्क्स (अँ)**  
 पूर्णांक 322.20  
**मार्क्सवाद**  
 प्रगतिवाद 884.16  
 साम्यवाद 884.19  
**मार्ग**  
 काव्य प्रवृत्ति 453.13  
 छिद्र 271.6  
 द्वार 808.1  
 धर्म 735.1
- प्रवेश मार्ग 1094.6  
 मार्ग 1063.1 ⇌  
 संक्रमण स्थल 1081.5  
**मार्ग (वे.)**  
 सड़क 1063.33  
**मार्ग अधिकार**  
 मार्गाधिकार 1063.6  
**मार्ग अवरोध**  
 नाका 1064.9  
**मार्ग अवरोधन**  
 मार्ग अवरोधन 1047.11 ⇌  
**मार्ग कर**  
 पथ कर 647.22  
**मार्ग के साथ साथ**  
 अनुमार्गता 1098.28  
**मार्ग क्रम**  
 यात्रा मार्ग 1087.26  
**मार्ग गमन**  
 मार्ग गमन 1098.1 ⇌  
**मार्ग ग्रहण**  
 मार्ग गमन 1098.1  
**मार्ग ग्रहण करना**  
 जाना 1061.6  
**मार्ग पर जाना**  
 1098.13  
**मार्ग बचुर**  
 मार्ग ज्ञाता 1098.22  
**मार्ग चित्र**  
 पथचित्र 1087.27  
**मार्ग धिहन**  
 मील का पत्थर 1067.10  
**मार्गध्युत**  
 मार्गध्युत 1099.8 ⇌  
**मार्गध्युत कर्ता**  
 मार्गध्युत कर्ता 1099.9 ⇌  
**मार्गध्युतता**  
 दुरचरित्रता 811.1  
**मार्गध्युत होना**  
 मार्गध्युत होना 1099.5 ⇌  
**मार्गध्युति**  
 मार्गध्युति 1099.2 ⇌  
**मार्ग जानना**  
 मार्ग ज्ञान होना 1098.14  
**मार्गज्ञ**  
 मार्ग ज्ञाता 1098.22  
**मार्ग ज्ञाता**  
 मार्ग ज्ञाता 1098.22 ⇌  
**मार्ग ज्ञान**  
 मार्ग ज्ञान 1098.2 ⇌  
**मार्ग ज्ञान होना**  
 मार्ग ज्ञान होना 1098.14 ⇌  
**मार्गण**  
 गमन 1091.1  
 भिलाटन 842.3  
**मार्गण अनुमति**  
 पार गमन अनुमति 1097.2  
**मार्गणा**  
 खोज 336.4

## मार्ग ताल

### मार्ग ताल

तालः प्रकार सूची 458.27

### मार्ग तोरण

स्वागत तोरण 1059.7

### मार्ग दर्शक

नेता 346.2

### मार्ग दर्शक चिह्न

मार्ग दर्शक स्तंभ 1067.11

### मार्ग दर्शक पीपा

तेरता पीपा 1072.18

### मार्ग दर्शक स्तंभ

मार्ग दर्शक स्तंभ 1067.11 ⇌

### मार्ग दर्शन

अभिभावक कर्म 720.11

निदेशान 347.3

नेतृत्व 346.1

संचालन 655.1

### मार्ग दर्शिका

पथ प्रदर्शिका 1087.28

### मार्ग दिखाना

मार्ग दिखाना 1098.15 ⇌

### मार्गदृष्टा

मार्ग ज्ञाता 1098.22

### मार्ग देवी

मार्ग रक्षक देवी 1067.21

### मार्ग द्वारा प्रेषित

मार्ग द्वारा प्रेषित 1054.20 ⇌

### मार्ग द्वारा प्रेषित

मार्ग द्वारा प्रेषित 1054.20

### मार्ग धेनु

योजन 959.27

### मार्ग धेनुक

मील का पत्थर 1067.10

योजन 959.27

### मार्ग न मिलना

मार्ग न मिलना 1099.6 ⇌

### मार्ग नियंता

कर्णधार 1080.19

विमान दिशा नियंता 1074.25

### मार्ग नियंत्रक

कर्ण 1073.2

### मार्ग नियंत्रण

कर्ण धारण 1080.6

यातायात नियंत्रण 1067.2

### मार्ग निरीक्षक

मार्ग निरीक्षक 1067.19 ⇌

### मार्ग निर्देशक

निदेशक 347.17

### मार्ग पकड़ना

मार्ग पर जाना 1098.13

### मार्ग पता होना

मार्ग ज्ञान होना 1098.14

### मार्गपति

मार्ग निरीक्षक 1067.19

### मार्ग पर

अनुमार्गतः 1098.28

### मार्ग पर चलना

मार्गानुगमन करना 1098.16

### मार्ग पर जाना

मार्ग पर जाना 1098.13 ⇌

### मार्ग परिचित

मार्ग परिचित 704.28 ⇌

### मार्ग परिचितता

मार्ग परिचितता 704.12 ⇌

### मार्ग परिवर्तन

दिशा परिवर्तन 1098.8

### मार्ग पहचान

मार्ग ज्ञान 1098.2

### मार्ग पहचानना

मार्ग ज्ञान होना 1098.14

### मार्गः पहरेंदार

मार्गः पहरेंदार 908.14 ⇌

### मार्ग पार्थक्य

मार्ग पार्थक्य 1098.11 ⇌

### मार्ग पालन

मार्गानुगमन 1098.6

### मार्ग पाली

मार्ग रक्षक देवी 1067.21

### मार्ग पृथक होना

मार्ग पृथक होना 1098.20 ⇌

### मार्ग प्रदर्शक

प्रकाश स्तंभ 285.31

मार्ग प्रदर्शक 1098.4 ⇌

### मार्ग प्रदर्शन

मार्ग प्रदर्शन 1098.3 ⇌

### मार्ग प्रदर्शिका

पथ प्रदर्शिका 1087.28

### मार्ग बंधन

मार्ग अवरोधन 1047.11

### मार्ग बदलना

दिशा बदलना 1098.18

### मार्ग भक्ता

यात्रा भक्ता 643.39

### मार्गः भेंट

मार्ग परिचितता 704.12

### मार्ग भ्रम

मार्ग भ्रम 1099.1 ⇌

### मार्ग भ्रम (दे.)

भ्रम 342.1

### मार्ग भ्रम होना

मार्ग भ्रम होना 1099.4 ⇌

### मार्गभ्रष्ट

मार्गच्युत 1099.8

### मार्गभ्रष्टता

दुश्चरित्रता 811.1

मार्गच्युति 1099.2

### मार्गभ्रांत

मार्गभ्रांत 1099.7 ⇌

### मार्ग माप

दूरी माप 959.19

### मार्ग मिलना

मार्ग संगम होना 1098.21

### मार्ग में

जाते जाते 1091.16

### मार्गया

मार्ग से 1098.26

### मार्ग रक्षक

मार्ग रक्षक 1067.20 ⇌

### मार्ग रक्षक देवी

मार्ग रक्षक देवी 1067.21 ⇌

### मार्ग रक्षिका

मार्ग रक्षक देवी 1067.21

### मार्ग लेना

मार्ग पर जाना 1098.13

### मार्गयती

मार्ग रक्षक देवी 1067.21

मार्गयती 774.71 ⇌

### मार्ग विषयक

मार्गीय 1063.54

### मार्ग व्यय

यात्रा व्यय 1087.14

### मार्गशीर्ष

भारतीय मास सूची 43.6

मार्गशीर्ष 43.15 ⇌

### मार्गशील

संक्रमणशील 1091.15

### मार्ग संकेत

यातायात संकेत 1067.12

### मार्ग संगम

मार्ग संगम 1098.12 ⇌

### मार्ग संगम होना

मार्ग संगम होना 1098.21 ⇌

### मार्ग संगीत

प्राचीन शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत 457.9

### मार्ग से

मार्ग से 1098.26 ⇌

### मार्ग स्तंभ

मार्ग दर्शक स्तंभ 1067.11

### मार्गस्थ पांथशाला

मार्गस्थ पांथशाला 1090.26 ⇌

### मार्गस्थित पांथशाला

मार्गस्थ पांथशाला 1090.26

### मार्गस्थिति

यात्रा 1087.1

### मार्गहीन

दिशाहीन 1099.11

लक्ष्य प्रमित 931.24

### मार्गहीनता

दिशाहीनता 1099.3

### मार्गहीन होना

मार्गच्युत होना 1099.5

### मार्गाधिकार

मार्गाधिकार 1063.6 ⇌

### मार्गानुगमन

मार्गानुगमन 1098.6 ⇌

### मार्गानुगमन करना

मार्गानुगमन करना 1098.16 ⇌

### मार्गानुगामी

मार्गानुगामी 1098.23 ⇌

### मार्गानुमति पत्र

मार्गानुमति पत्र 1092.9 ⇌

### मार्गानुसरण

मार्गानुगमन 1098.6

### मार्गानुसार

अनुमार्गतः 1098.28

### मार्गाली (ग्र)

दोड़ मार्ग 1063.26

### मार्गावरोधन

मार्ग अवरोधन 1047.11

### मार्गासारित

नेपथ्य पूर्वरंग सूची 468.18

### मार्गिक

मार्गीय 1063.54

यात्री 1087.2

### मार्गिका

पथचित्र 1087.27

### मार्गी

मार्ग प्रदर्शक 1098.4

यात्री 1087.2

### मार्गीय

धर्मीय 735.11

मार्गीय 1063.54 ⇌

### मार्गी संगीत

प्राचीन शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत 457.9

### मार्ग

मार्ग से 1098.26

### मार्थ

ईसवी मास सूची 43.4

मार्थ 1083.11 ⇌

### मार्थ (अँ)

मार्थ 1083.11

### मार्थ करना

मार्थ करना 1083.22 ⇌

### मार्थ पास्ट (अँ)

सलामी परेड 1083.10

### मार्थिंग

मार्थिंग 1083.12 ⇌

### मार्थिंग (अँ)

मार्थिंग 1083.12

### मार्जक

घोड़ी 220.6

परिष्कारक 537.10

मार्जक 218.39 ⇌

### मार्जन

उप संपादन 445.12

परिष्करण 537.2

प्रकाशन 220.1

बरतन मैजाई 218.9

मार्जन 218.8 ⇌

शस्त्र मार्जन 929.6

### मार्जनीभूषणा

शीतला 774.91

### मार्जार

नर बिल्ली 127.57

### मार्जारकंठ

मोर 126.68

### मार्जारी

कस्तूरी 274.15

बिल्ली 127.56

### मार्जित

परिष्कृत 537.9

माजित 218.36 ⇐  
 माजित करना  
 माजित करना 218.25 ⇐  
 माजिता  
 मधुपर्क 750.11  
 माट (अँ)  
 बाज़ार 663 1  
 मार्टिन लूथर (अँ)  
 लूथर 791.26  
 मार्टिड  
 सूर्य 8 1  
 मार्टिडीय  
 सूर्यीय 8 9  
 मारिक  
 माटीय 100.25  
 मार्दय  
 दयालुता 834.4  
 मृण्मयता 545 19  
 यिनम्रता 733.8  
 मार्कत  
 द्वारा प्रेषित 1054 18  
 मार्बल (अँ)  
 सग मरमर 99 9  
 मार्मिक  
 भावपूर्ण 358 25  
 मर्मज्ञ 305.35  
 मर्मस्थ 999 14  
 मारक 251 24  
 रहस्यपूर्ण 823 13  
 हृदय भंजक 391 34  
 मार्मिकता  
 घनिष्ठता 704.13  
 मार्मिक प्रहार  
 मारक प्रहार 918 6  
 मार्शल (अँ)  
 कमांडर 935.8  
 मार्शल ला (अँ)  
 सैनिक शासन 890 8  
 मार्स (अँ)  
 मंगल ग्रह 7 7  
 माल  
 असबाब 1087.31  
 उत्पाद 546.1  
 उपभोग्य वस्तु 666.2  
 क्षेत्र 34.1  
 चौकी सड़क 1063.35  
 घनिक आहार 197.9  
 पक्का खाना 197.4  
 पण्य सामान 666.5  
 भराई सामग्री 1004.4  
 माल 1076.28 ⇐  
 राग रागिनी सूची 457.24  
 लाद 1061.5  
 वस्तु 666.1  
 संपत्ति 624.1  
 सामान 666.3  
 सामान 1061.6  
 स्वादिष्ट आहार 197.11

माल (अँ)  
 माल रोड 1063.23  
 माल (गाणी)  
 भार वाहक 1061.22  
 माल अक्षबाब  
 सामान 666.3  
 माल उतराई  
 माल उतराई 1061.14 ⇐  
 माल और माप  
 माल भार पद्धति 962 61  
 मालक  
 नारियल बरतन 680.5  
 माल कमी  
 माल कमी 656.4 ⇐  
 मालकिन  
 पत्नी 803.6  
 मालकौस  
 राग रागिनी सूची 457.24  
 मालखंभ  
 मलखंभ 485 13  
 मालखाना  
 माल गोदाम 670 22  
 मालगाड़ी  
 भार यान 1071 2  
 मालगाड़ी 1071.16 ⇐  
 मालगुज़ार  
 लगान दाता 647.26  
 मालगुज़ारी  
 उत्पादन कर 647 14  
 लगान 647 25  
 मालगुज़ारी वसूल कर्ता  
 लगान वसूल कर्ता 647.37  
 माल गोदाम  
 माल गोदाम 670.22 ⇐  
 मालघर  
 माल गोदाम 670 22  
 वितरण केंद्र 656.9  
 माल धिरनी  
 घेन कुम्पी 1062 15  
 माल चढ़ाना  
 पलस्तर करना 599.39  
 माल टाल  
 घल संपत्ति 624 9  
 संपत्ति 624.1  
 माल डिब्बा  
 माल डिब्बा 1076.11 ⇐  
 माल बुलाई  
 कुलीगीरी 1061 3  
 माल तंगी  
 माल कमी 656.4  
 मालती  
 उपवन पुष्प सूची 14.2  
 घमेली 14.16  
 मालती 14.21 ⇐  
 युवती 231.9  
 मालती क्षार  
 सुहागा 281.33

मालती पत्रिका  
 जायित्री 281 17  
 मालदह  
 आम सूची 190 10  
 मालदार  
 घनाढ्य 626.14  
 घनाढ्य व्यक्ति 626.5  
 मालदीय  
 मालदीप 27 15  
 मालदीप  
 दक्षेस सदस्य सूची 27.4  
 भास्त उपमहादीप देश क्षेत्र सूची 27 6  
 मालदीप 27.15 ⇐  
 मालदीप: राजधानी  
 मालदीप: राजधानी 27 16 ⇐  
 मालदीपी  
 मालदीपी 27.29 ⇐  
 मालदीपीय  
 मालदीपी 27.29  
 माल नदी  
 नदी मार्ग 1066 6  
 माल नीका  
 माल नीका 1072 34 ⇐  
 माल पाने वाला  
 प्रेषिती 1054.15  
 मालपुआ  
 मालपुआ 203.21 ⇐  
 मालपुआ  
 मालपुआ 203.21  
 माल पोत  
 माल पोत 1072.35 ⇐  
 मालबंदी  
 पैकिंग 1014 1  
 माल बंधक में देना  
 बंधक में देना 633.30  
 माल बंधक में लेना  
 बंधक में लेना 633.31  
 माल बैधाई  
 पैकिंग 1014.1  
 माल बकसा  
 कनटेनर 1076.12  
 माल बहुतायत  
 माल बहुतायत 656.3 ⇐  
 माल बांधना  
 पैक करना 1014.6  
 माल बैचने निकलना  
 फेरी लगाना 1083.24  
 माल भरना  
 जमाखोरी करना 865.21  
 माख भांड  
 कनटेनर 1076.12  
 माल भाखा  
 माल भाखा 622.12 ⇐  
 माल भार  
 माल भार 1061.7 ⇐  
 माल भार पद्धति  
 माल भार पद्धति 962.61 ⇐

माल भेजने वाला  
 प्रेषक 1054.16  
 माल मैगाना  
 माल मैगाना 660.16 ⇐  
 मालम  
 उप पोताध्यक्ष 1080.17  
 मालमकखी  
 मधुमकखी 122 39  
 माल मत्ता  
 संपत्ति 624.1  
 माल मत्ता  
 घल संपत्ति 624.9  
 सामान 666.3  
 माल रोड  
 माल रोड 1063.23 ⇐  
 माल रोड (अँ)  
 माल रोड 1063.23  
 माल लादना  
 लादना 1061.17  
 माल ले जाना  
 भार वहन करना 1061.16  
 मालय  
 राग रागिनी सूची 457.24  
 मालवा का पठार  
 भारत उपमहादीप: पर्वत सूची 17.1  
 मालवा: रात  
 मालवा रात 48 8 ⇐  
 माल वाहक  
 माल वाहक 1071.3 ⇐  
 मालवाहक विमान  
 मालवाहक विमान 1074.14 ⇐  
 मालवाही  
 माल वाहक 1071 3  
 माल सूची  
 बिल 632.28  
 माला  
 जपमाला 749.7  
 तारतम्य 1049.3  
 धारावाही 447.26  
 पक्ति 691 4  
 पर्वत श्रेणी 16.9  
 पुस्तक माला 446.32  
 मंजिल 612.1  
 माला 228.30 ⇐  
 श्रेणी संख्या 949 15  
 संग्रह 669.2  
 समूह 690.1  
 सम्मान माला 857.21  
 सुविध संग्रह 669.6  
 माला (वे.)  
 कंठहार 228.26  
 मालाकार  
 मालाकार 12.33 ⇐  
 माला जप  
 माला जप 749.6 ⇐  
 माला जपना  
 माला जपना 749.40 ⇐

## माला जाप

माला जाप  
माला जाप 749.6  
माला जोरी  
माला धागा 509.8  
माला: धाना  
मनका 228.48  
मालाधर  
माला धारी 228.55  
माला धागा  
माला धागा 509.8 ⇌  
माला धारी  
माला धारी 228.55 ⇌  
माला: कुंदना  
जपमाला: कुंदना 749.9  
माला फेरना  
माला जपना 749.40  
मालामाल  
समुद्र 626.11  
मालामाल होना  
समुद्र होना 626.10  
मालार्पण  
माल्यार्पण 1059.20  
मालिक  
अल्लाह 784.12  
अल्लाह 784.12  
आवास स्वामी 621.21  
गृहपति 236.5  
दास स्वामी 651.17  
दुकानदार 661.11  
पति 803.5  
प्रवीण व्यक्ति 303.9  
भृति भर्ता 650.29  
व्यापार अध्यक्ष 657.3  
सप्ताधारी 899.3  
मालिक [मालकिन]  
स्वामी 621.2  
मालिक (बे.)  
वेतन दातृ 643.24  
मालिका  
अंगूर: मद्य 209.4  
धारावाही 447.26  
पुस्तक माला 446.32  
बहुजंजी भवन 802.21  
माला 228.30  
श्रेणी संख्या 949.15  
मालिकाना  
जमींदारी 553.13  
स्वामिन्तीय 621.22  
स्वामीय 621.23  
मालिकी  
जमींदारी 553.13  
मालिकों द्वारा कामबंदी  
तालाबंदी 902.16  
मालिन  
नवकन्या सूची 774.20  
मालिनी  
दुर्गा 776.7  
राक्षस स्त्री सूची 784.23

मालिनी (अज्ञातवास: नाम)  
द्रोपदी 771.64  
मालिया  
मूल्य 664.1  
मालियाना  
राजस्व 647.1  
मालिश  
मालिश 225.2 ⇌  
मालिश करना  
मालिश करना 225.37 ⇌  
मालिशिया  
मालिशिया 225.3 ⇌  
माली  
धनीय 628.23  
पुष्प चयन कर्ता 12.32  
मालद्वीप: राजधानी 27.16  
मालाकार 12.33  
माली 784.9 ⇌  
राक्षस सूची 784.4  
द्वितीय 633.32  
सहित 1006.2  
माली [मालिन]  
उपवन कर्मी 12.28  
सम्प्री: विक्रेता 663.16  
माली [मालिनी]  
माला धारी 228.55  
-माली [-मालिनी]  
सहित: प्रत्यय सूची 1006.5  
मालीपुत्रिया  
विवादान्नाद 354.12  
मालूम  
परिज्ञात 305.32  
संज्ञात 441.18  
सर्व संज्ञात 441.21  
मालूम करना  
पूछना 333.19  
मालुमात  
परिज्ञान 305.13  
समाचार 440.1  
सूचना 441.1  
माले हनीमत  
विजित धन 664.28  
विजित संपत्ति 624.4  
माले मुक्त  
अनजित संपत्ति 624.6  
मालेया  
बड़ी इलायची 281.10  
मालील  
मुसिह: नी रूप सूची 769.21  
माल्य  
पुष्प 115.6  
माल्यार्पण 1059.20  
सम्मान माला 657.21  
माल्यग्रथ विकल्प  
चंसठ कला सूची 397.4  
माल्यवान  
माल्यार्पण 1059.20

माल्यवान  
राक्षस सूची 784.4  
माल्यवान [माल्यवती]  
माला धारी 228.55  
माल्या  
माला 228.30  
माल्यार्पण  
गांधर्व विवाह 799.23  
माल्यार्पण 1059.20 ⇌  
वरमाला 800.42  
माल्लवी  
कुश्ती 486.7  
मायस  
अभावस्था 44.21  
माया  
माया 193.16 ⇌  
माया: रत्नगुल्फा  
गुलाब जामन 203.34  
माश मारना  
अभिनंत्रण करना 758.33  
माशा  
माशा 962.49 ⇌  
माशा: 12  
तोला 962.43  
माशा अल्लाह  
शाबाशी: उद्गार सूची 841.40  
माशूक  
प्रेमपात्र 369.4  
माशूका  
प्रेमपात्रा 369.5  
माशूकी  
प्रेमपात्रता 369.3  
माशूके हलीली  
अल्लाह 764.12  
माश्की  
भिरती 19.26  
माश  
उकद 188.9  
मस्सा 165.11  
माशा 962.49  
मास  
बारह: उपमान सूची 948.43  
मास 751.21 ⇌  
मास 43.1 ⇌  
मास (अं.)  
मास 751.21  
मास: पक्ष  
मास: पक्ष 45.1 ⇌  
मासमान  
वर्ष 42.8  
मासर  
काँजी 208.13  
मासिक  
मासिक 43.22 ⇌  
मासिक 71.19 ⇌  
मासिक वेतन  
मासिक वेतन 643.26 ⇌

मासी  
मौसी 722.46  
मासीन  
मासिक 43.22  
मासीय  
मासिक 43.22  
मासूम  
अनुभवहीन सरल 817.9  
अपराधहीन 861.16  
छलहीन 815.8  
मास्क (अं.)  
मुखौटा 589.20  
मास्ट (अं.)  
मस्तूल 1073.11  
मास्टर (अं.)  
अध्यापक 323.8  
अविवाहित पुत्र्य उपाधि सूची 856.3  
निष्ठात उपाधि 322.29  
पुरुष उपाधि सूची 856.2  
प्रवीण 303.22  
प्रवीण व्यक्ति 303.9  
सिद्ध कलाकार 397.19  
मास्तिष्क  
मस्तिष्कीय 140.27  
मास्य  
मासिक 43.22  
माई  
अंदर 999.17  
माह  
उकद 188.9  
माघ 43.17  
मास 43.1  
माहताब  
चंद्रमा 8.2  
माहताबी  
खुला चबूतरा 610.7  
खुली छत 611.12  
चंद्रशाला 614.24  
घकोलता 190.18  
माहनामा  
मासिक 43.22  
मासिक 71.19  
माहवार  
मासिक 71.19  
माहवारी  
मासिक 43.22  
मासिक वेतन 643.26  
माहात्म्य  
गौरव 849.4  
महत्त्व 852.1  
माहात्म्यपूर्ण  
महत्त्वपूर्ण 852.8  
माहात्म्य वर्णन  
प्रशंसा गाथा 841.7  
माहात्म्यहीन  
महत्त्वहीन 853.8  
माहाना  
मासिक 43.22



माहिं	मिबर (मक्षजिह)	मिजाज होना	मिट्टी ठिकाने लगाना
अंघर 999.17	उपदेश मंच 745.42	दर्प करना 858.9	मृतक संस्कार करना 253.29
माहिर	भाषण मंच 695.13	मिजाजी	मिट्टी: डेला
इंद्र 773.5	वि. (अं) (बीज रूप)	दर्पी 858.13	मिट्टी: डेला 938.42
प्रवीण 303.22	पुरुष उपाधि सूची 856.2	स्वाभाविक 836.11	मिट्टी: तप्तले जीसा बरतन
माही	मिऊद्वार	मिजोरम	छप्पर 883.9
मछली 125.1	नियत मात्रा 946.4	मिजोरम 28.60 ⇨	मिट्टी: तेल
मासिक 43.22	मात्रा 946.3	मिजोरम: राजधानी	खनिज तेल 110.16
माहीगिर	मिक्कचर	मिजोरम: राजधानी 28.61 ⇨	मिट्टी: तेल 110.20 ⇨
नादिक 1080.21	मिक्कचर 176.23 ⇨	मिट जाना	मिट्टी: दवात
मत्स्य आखेटक 252.16	मिक्कचर (अं)	अल्प काल तक रहना 38.5	मिट्टी: दवात 416.27 ⇨
माहीगिरी	मिक्कचर 176.23	मिटना	मिट्टी डेना
नीकायन 1080.1	मिश्रण 1008.1	अल्प काल तक रहना 38.5	दफन करना 253.32
मछुआ कर्म 252.15	मिषार (अं)	नष्ट होना 531.4	मिट्टी बरतन
माहीपुरत	किचन मशीन 560.2	मरना 249.18	मिट्टी बरतन 680.8 ⇨
उन्नतोदर 988.9	मिक्की (अं)	विलुप्त होना 824.17	मिट्टी: बाँध
माही बेका	किचन मशीन 560.2	मिटने वाला	मृत्तिका बंध 22.4
मछुआरी बेका 1072.31	मिक्कड वार्न (अं)	नश्वर 38.7	मिट्टी: मिर्गीना
माही मरातिब (मुगल बंरा)	मिश्रित धाग 569.21	मिट्टा [मिट्टी]	तोला 679.48
ध्वजा 408.4	मिश्रा (बीज रूप)	नष्ट 531.7	मिट्टी मुलायम करना
माहुर	मिलिग्राम 962.51	पोछा [पोंछी] 218.35	गुंवाई करना 548.44
विष 177.2	मिचकन	मिट्टाई	मिट्टी: मूर्ति
माहेंद्र	मिचकन 120.2 ⇨	पोंछाई 218.6	मृत्तिका मूर्ति 406.10
एंद्र 773.53	मिचका [मिचकी]	मिट्टाऊ	मिट्टी सोना बनना
माहेंद्री	मिचका [मिचकी] 120.10 ⇨	नाशक 531.8	समृद्ध होना 626.10
पूर्व 29.11	मिचका [मिचकी]	निवारक 920.18	मिट्टी
शची 774.89	मिचका [मिचकी] 120.10	मिटाना	सुबन 237.9
माहेय	मिचकाना	नष्ट करना 531.5	मिट्टू
मूंगा 97.1	ऑख मारना 284.37	पोछना 218.30	तोता 126.44
माहेयी	मिचकाना 120.6 ⇨	प्रलय करना 530.7	मिष्टभाषी 431.8
गाय 127.10	मिचन	मारना 251.18	मिट्टी: डेला
माहेषा	मिचकन 120.2	मिटापन	मिट्टी: डेला 938.42 ⇨
शिव विषयक 767.2	मिचना	कुदृश्यता 282.11	मिट्टी: शिवालिंग
माहेश्वर	मुकुलित होना 120.5	मिटिया	मिट्टी: शिवालिंग 746.16 ⇨
शिव विषयक 767.2	मिचमिट्टाहट	गिटियाला [गिटियाली] 100.28	मिष्ट-
माहेश्वरी	मिचकन 120.2	मिटिया महल	मीठा [मीठी] 280.30
दुर्गा 776.7	मिचलाहट	मिट्टी. कुटी 602.3	मिठबोला
देवी: शक्ति सूची 774.50	मिचलाहट 215.27 ⇨	मिट्टी	मिष्टभाषी 431.8
माहेश्वरी 774.72 ⇨	मिचली	मिट्टी 100.8 ⇨	मिठबोलापन
सप्त मातृका सूची 774.70	मिचलाहट 215.27	शय 254.1	मिष्ट भाषण 431.3
माहील	मिचा [मिची]	मिट्टी का तेल	मिठबोली
परिस्थिति 69.5	मिचका [मिचकी] 120.10	मिट्टी. तेल 110.20	मिष्टभाषिणी 431.9
मिक	मिज़ (अं)	मिट्टी का माषो	मिट्टाई
मिक 582.19 ⇨	अविवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.5	वज्रधी 302.9	मिट्टात्र 203.1
मिक (अं)	स्त्री उपाधि सूची 856.4	मिट्टी की गाड़ी	मिट्टाई का बल्ला
मिक 582.19	मिज़राब	मिट्टी की गाड़ी 480.5 ⇨	लोलीपीप 203.56
मिक ऊद बिलाव 124.7	मिज़राब 461.100 ⇨	मिट्टी की मूरत	मिट्टाई: गोली
मिक ऊद बिलाव	मिज़ाज	शरीर 139.1	मिट्टाई: गोली 203.51 ⇨
मिक ऊद बिलाव 124.7 ⇨	दर्प 858.5	मिट्टी: कुटी	मिठास
मिगी	मिश्रण 1008.1	मिट्टी: कुटी 602.3 ⇨	मधुरव्य 280.11
बीज गिरी 112.2	स्वभाव 836.4	मिट्टी के भाव	मिठास 280.1 ⇨
मिजाई	स्वास्थ्य दशा 161.2	अल्पमूल्यतः 664.39	मिष्ट स्वभाव 837.3
मिडाई 541.3	मिजाजपुरसी	मिट्टी के मोल	सूरीलापन 459.34
मिट (अं)	कुशल प्रश्न 710.7	अल्पमूल्यतः 664.39	मिठवाइफ (अं)
टकसाल 565.9	मिजाजपुर्स	मिट्टी: गाड़ी	दाई 244.6
मिडाई	कुशल प्रश्न कर्ता 710.25	मिट्टी की गाड़ी 480.5	मिडिल (अं)
मिडाई 541.3 ⇨	मिजाज सातवें आसमान पर होना	मिट्टी गारा	मध्य बिंदु 996.2
	दर्प करना 858.9	मिट्टी गारा 100.9 ⇨	

## मिडिल स्कूल (अं)

### मिडिल स्कूल (अं)

शिक्षालय सूची 321 11

#### मिडी

मिडी 585.41 ⇨

#### मिडी (अं)

मिडी 585.41

#### मित

अल्प 942.13  
मात्रा में नियत 948 17  
मापित 958 57  
ससीम 1001.33

#### मितता

संकीर्णता 980.11

#### मित भाषण

अयाद्यालता 429.6

#### मितभाषी

अयाद्याल 429.26

#### मितवा

पुरुष मित्र 705 2  
बाल मित्र 705.12

#### मित व्यय

मित व्यय 644.2 ⇨

#### मित व्यय करना

मित व्यय करना 644.14 ⇨

#### मितव्ययी

मितव्ययी 644.23 ⇨

#### मिताई

मित्रता 705.1

#### मिताहार

अल्पाहार 182 5  
डायटिंग 182 6

#### मिताहारी

अल्पाहारी 182 16

#### मिति

माप 958 1  
मापन 958.2  
विज्ञान 307.1  
सीमा 1001.1

#### मिती

तारीख 44.1  
तिथि 44.2

#### मित्र

पुरुष मित्र 705.2  
बारह आदित्य सूची 777 4  
मित्र 773.42 ⇨  
संगी 696 2  
सूर्य 8.1

#### मित्रघात

मित्रद्रोह 827 5

#### मित्रघाती

मित्रद्रोही 827.20

#### मित्रः चौकड़ी

मित्र चौकड़ी 705.6 ⇨

#### मित्रता

मित्रता 705 1 ⇨

#### मित्रता दूटना

मित्रता दूटना 705.24 ⇨

#### मित्रता: दिखावा

सस्वार्थ मित्रता 705.7

#### मित्रतापूर्ण

मित्रतापूर्ण 705.26 ⇨

सीमनस्यपूर्ण 705.30

#### मित्रतापूर्णता

सीमनस्य 705.18

#### मित्रता विस्थापना

मित्रता विस्थापना 705.16 ⇨

#### मित्रता स्थापना

मित्रता स्थापना 705.15 ⇨

#### मित्रत्वाग

मित्रता विस्थापना 705.16

#### मित्रः दुकड़ी

मित्रः दुकड़ी 705.5 ⇨

#### मित्रद्रोह

मित्रद्रोह 827.5 ⇨

#### मित्रद्रोही

मित्रद्रोही 827.20 ⇨

#### मित्र निष्ठा

निस्वार्थ मित्रता 705 9

#### मित्रमिय

मित्र वत्सल 705.27

#### मित्र प्रेमी

मित्र वत्सल 705.27

#### मित्र बनना

मित्र बनना 705.19 ⇨

#### मित्र भाव

मित्रता 705 1

मित्र भाव 752.16 ⇨

#### मित्र मंडली

मित्र मंडली 705.4 ⇨

#### मित्रयुक्त

मित्रयुक्त 705 28 ⇨

#### मित्र लाभ

मित्रता स्थापना 705 15

#### मित्र वत्सल

मित्र वत्सल 705.27 ⇨

#### मित्र वत्सलता

मित्र वत्सलता 705 17 ⇨

#### मित्रवर

पुरुष मित्र 705.2

#### मित्रवान [मित्रवती]

मित्रयुक्त 705.28

#### मित्र वृंद

मित्र मंडली 705.4

#### मित्रवृदा

कृष्ण. आठ पत्नी सूची 771.12

#### मित्र संगति

संगति 696 1

#### मित्र संबंध

मित्रता 705.1

#### मित्र समर्थक

मित्र वत्सल 705.27

#### मित्र सहायता

मित्र वत्सलता 705 17

#### मित्रहानि

मित्रता विस्थापना 705 16

#### मित्रहीन

मित्रहीन 705.29 ⇨

#### मित्रहीन होना

मित्रहीन होना 705 23 ⇨

#### मित्रा

सुमित्रा 770 71  
स्त्री मित्र 705 3

#### मित्रालाप

गपराप 435 6

#### मित्रावरुण

मित्र 773.42

#### मित्रावसु

गंधर्व सूची 778.5

#### मित्रीय

मित्रः 705.25 ⇨

#### मित्रोचित

मित्रतापूर्ण 705.26

#### मिथिला

जनकः राजधानी 770.31

#### मिथिला पति

जनक 770.28

#### मिथिला राज बुलारी

सीता 770 86

#### मिथिलेश

जनक 770.28

#### मिथिलेश्वर

जनक 770 28

#### मिथुन

नर मादा 236.30  
रति संयोग 237 10

#### मिथुन राशि

राशि सूची 4 8

#### मिथ्यता:

असत्यतः 821.23

#### मिथ्यता

असत्यता 821.2

#### मिथ्या

असत्यतापूर्ण 821 16

तथ्यहीन 821.22

सत्याभास 821.8

सत्याभासी 821 19

#### मिथ्या आभास

भ्रम 342 1

#### मिथ्या आरोप

मिथ्या आरोप 875.10 ⇨

#### मिथ्या आरोप लगाना

मिथ्या आरोप लगाना 875.23 ⇨

#### मिथ्या आशा

मिथ्या आशा 375.4 ⇨

#### मिथ्याचार

छल 827 7

#### मिथ्या तर्क

कुतर्क 325.3

#### मिथ्या दर्शन

मिथ्या दर्शन 342.5 ⇨

#### मिथ्या निरसन

मुकरन 338.10

#### मिथ्यापवाद

मिथ्या आरोप 875.10

#### मिथ्याप्रतिज्ञा

भ्रमप्रतिज्ञा 338.49

#### मिथ्या भाषण

असत्य कथन 821.5

#### मिथ्याभाषी

असत्यवादी 821.17

#### मिथ्याभियोग

मिथ्या आरोप 875 10

#### मिथ्या लोक

झूठलोक 258.11

#### मिथ्या वचन

असत्य वचन 821 3

#### मिथ्यावाद

मायावाद 760.23

#### मिथ्यावादिता

असत्यवादिता 821.4

#### मिथ्यावादी

असत्यवादी 821.17

#### मिथ्या विश्वास

भ्रम विश्वास 340.3

#### मिथ्या विश्वासी

भ्रम विश्वासी 340 15

#### मिथ्या सांत्वना

मिथ्या सांत्वना 393.6 ⇨

#### मिथ्या साक्षी

मिथ्या साक्षी 876.19 ⇨

#### मिनट

मिनट 50.9 ⇨

#### मिनट (अं)

घरः साठवाँ भाग 960 11

#### मिनटः 1/60

सेकंड 50.10

#### मिनटः 24

घटी 50.12

#### मिनटः 48

मुहूर्त 49 10

#### मिनटः 60

घंटा 50 8

#### मिनमिन

अस्पष्ट उच्चारक 299 28

अस्पष्ट उच्चारण 299.10

नैकनापन 299.17

#### मिनमिनाना

अस्पष्ट उच्चारण करना 299.19

#### मिनमिनाहट

अस्पष्ट उच्चारण 299.10

नैकनापन 299.17

#### मिनरल वाटर (अं)

कूप जल 88.8

#### मिनरसा

उपवासः उपहार 748 16

#### मिनहा

कटीती 664 17

कटीती कृत 664.36

#### मिनिएधर

मिनिएधर 404.8 ⇨

मिनिएधर (अँ)  
मिनिएधर 404 8  
मिनिट (अँ)  
मिनट 50.9  
मिनिट्स (अँ)  
कार्य विवरण 449 9  
मिनिट्स बुक (अँ)  
कार्यवृत्त बही 632 13  
मिनिस्टर (अँ)  
इंसाई वनविकसि सग्टि सक्त्स 744 28  
पादरी 744 29  
मंत्री 889.18  
राजदूत 443 10  
मिनिस्टर्री (अँ)  
मन्त्रालय 889 17  
मन्त्री मडल 889 16  
मिनी  
मिनी 585.42 ⇨  
मिनी (अँ)  
मिनी 585.42  
मिनी कंप्यूटर  
मिनी कंप्यूटर 951 3 ⇨  
मिन्नत  
कृतज्ञता 833 1  
गिङ्गिङ्गाहट 350 8  
मिमिक (अँ)  
मूक अभिनेता 464 12  
मिमियाना  
गिङ्गिङ्गाना 350 13  
मिमियाहट  
मिमियाहट 298 25 ⇨  
मिर्चा  
गृहपति 235 5  
दल नायक 852 6  
पति 803 5  
पुरुष उपाधि सूची 856.2  
प्रवीण व्यक्ति 303 9  
बड़ा आदमी पुत्र 718 9  
सत्ताधारी 899 3  
मिर्ची बीबी  
दपती 803 4  
मियाऊँ  
म्याऊँ 298 26  
मियाद  
नियत काल 39 1  
मियादी  
अवधियुक्त 39 9  
मियान  
म्यान 924 12  
मियानदारी  
दलाली 659 1  
मियाना  
बम 1076 23  
मुख्य मनका 228 49  
मियानी  
टॉङ्ग 670 14  
मियानी 586.21 ⇨  
मियानी 612.5 ⇨

मिरगी  
मिरगी 264 7 ⇨  
मिरघ  
मिर्घ 278 3  
मिरघी  
लाल मिर्घ 278 6  
मिरघी फला  
लाल मिर्घ 278 6  
मिरजा  
प्रधान व्यक्ति 852 4  
मिरजाई  
दल नायकता 852.5  
राज वैभवशाली 226.17  
मिरजाना  
मूँगा 97 1  
मिरजामिर्जाज  
प्रभावशाली 511 16  
मिरदंग  
मूदग 461 72  
मिरयाग्राम  
मिरयाग्राम 962 50 ⇨  
मिरयाग्राम (अँ)  
मिरयाग्राम 962 50  
मिरिघ  
मिर्घ 278 3  
मिर्घ  
मिर्घ 278 3 ⇨  
मिर्घ घूर्ण 278 9  
साग सब्जी सूची 189 4  
मिर्घ घूर्ण  
मिर्घ घूर्ण 278 9 ⇨  
मिर्घदान  
मिर्घदानी 676 14  
मिर्घदानी  
मिर्घदानी 676 14 ⇨  
मिर्घदार  
घरपरा [घरपरी] 278 12  
मिर्घ मसाला  
परघून 666 8  
मिर्घ मसाले  
आहार मसाला 281 3  
परघून सूची 186 9  
मिर्घ लगना  
घरपरा लगना 278 10  
मिर्घीला [मिर्घीली]  
घरपरा [घरपरी] 278 12  
मिर्जा [बेगम]  
बजा [बनी] पदनाम [भाका] सूची 882 10  
मिल (अँ)  
यत्रालय 558 12  
मिल कर  
एकतापूर्वक 698 12  
सग सग 696 26  
समूह 690 14  
सामजस्यपूर्वक 702 8  
स्वागतपूर्वक 1059.28  
मिलकीयत  
संपत्ति 624 1

मिल जुल कर  
सग सग 696.26  
सामजस्यपूर्वक 702.8  
मिलता जुलता [मिलती जुलती]  
सादृश्याभासित 309 21  
मिलन  
अभिसार 237 1  
आलिंगन 237.8  
एकीभवन 698 4  
गोष्ठी 694 4  
नदी संगम 21 20  
निकट आगमन 1083 4  
प्रिय सयोग 389.3  
भेंट 436 4  
मार्ग संगम 1098 12  
मिलन 389.1 ⇨  
विलयन 21 26  
संगमन 21.21  
संयुजन 1010 9  
सयोग शृंगार 455 22  
समागमन 694 17  
स्वागत 1059 1  
मिलन अभिलाषा  
मिलन अभिलाषा 1057.3 ⇨  
मिलन कराना  
मिलाना 389.6  
मिलन काल  
दिन-रात सधि काल 47.15  
मिलन गामिनी  
अभिसारिका 237 4  
मिलन गामिनी नायिका  
अभिसारिका नायिका 456 17  
मिलन बिंदु  
सपात बिंदु 968 5  
मिलन यामिनी  
मधु यामिनी 800 33  
मिलन यामिनी कक्ष  
मधुकक्ष 802 31  
मिलनसार  
बहिरमिमुखी 837.15  
बहु परिधित 704 25  
मिलनसार 696.24 ⇨  
मिलनसार स्वभाव  
मिलनसारिता 696.8  
मिलनसारिता  
बहिरमिमुखता 837 6  
मिलनसारिता 696 8 ⇨  
मिलन सुख  
सयोग सुख 389.4  
मिलन स्थल  
अभिसार स्थल 237 2  
सयुति स्थल 1010 11  
मिलन स्थान  
सयुति स्थल 1010.11  
मिलन होना  
मिलना 389 5  
मिलना  
आलिंगन करना 237 12

उत्तराधिकार मे मिलना 623.22  
उपलब्ध होना 943.5  
एकत्रित होना 867.6  
एक होना 698.8  
खोजा जाना 863.5  
प्रतिफल मिलना 510.7  
प्राप्त होना 637.4  
भेंट करना 436.7  
भेंटवार्ता करना 436 8  
मिलना 389 5 ⇨  
योगिक होना 1008.20  
लाभ होना 646.10  
विलय होना 21.33  
सगत होना 438.3  
संगम होना 21.32  
संयुक्त होना 1010.17  
सटना 31.6  
समाधिष्ट होना 1002.12  
सम्मिश्रित होना 1008.19  
सादृश्य होना 309.11  
साबकना पढ़ना 703 9  
मिलनाकांक्षा  
मिलन अभिलाषा 1057.3  
मिलना जाना  
लाभ हानि होना 646.9  
मिलना जुलना  
परिधय बढ़ाना 704.17  
मिलना हिलना  
परिधय बढ़ाना 704 17  
मिलनी  
मिलनी 800.35 ⇨  
मिलनी 1059 14 ⇨  
वरयात्रा स्वागत 800 44  
स्वागत 1059 1  
मिलने वाला  
परिधित 704.19  
भेंटवार्ता कर्ता 436 13  
मिलवाई  
मिलाई 389 2  
मिलवाना  
परिधित कराना 704 16  
प्राप्त कराना 637 5  
मिलाना 389.6  
मिलना  
जमा प्रविष्टि 632.7  
मिला [मिली]  
आदत 637 6  
एकीकृत 698 10  
परिणामत प्राप्त 510 11  
प्रतिलब्ध 863 8  
प्राप्त 637 8  
मिला [मिली] 389.8 ⇨  
मुकुलित 120.8  
संयुक्त 1010.22  
सटा [सटी] 31.8  
समागत 694.31  
समाधिष्ट 1002.21  
सामंजस्यपूर्ण 702.6

## मिलाई

### मिलाई

- जोड़ कर्म 954.2  
मिलनी 1059.14  
मिलाई 389.2 ⇨  
संयोजन 1010.10  
समावेश 1002.1  
सम्मिश्रण 1008.12
- मिला कर देखना  
तुलना करना 309.10
- मिला जुला [मिली जुली]  
सम्मिश्रित 1008.26
- मिलाजुलापन  
सम्मिश्रितता 1008.13
- मिलाजुझवी  
बारह वक्रात 57.50
- मिलान  
तुलना 309.1  
सामंजस्य स्थापना 702.2
- मिलान करना  
तुलना करना 309.10
- मिलाना  
जोड़ करना 954.11  
परिचित कराना 704.16  
मौड़ना 195.46  
मिलाना 389.6 ⇨  
संघटन करना 545.21  
संलग्न करना 1010.14  
समाधिष्ठ करना 1002.13
- मिलाने वाला  
परिचय संस्थापक 704.21  
मिलाने वाला 389.9 ⇨  
संयुक्त कर्ता 1010.23
- मिलाप  
मिलन 389.1  
समझौता 877.5  
समागमन 694.17
- मिलापन  
संलग्नता 1010.2  
सटापन 31.2
- मिलाया [मिलाई]  
सम्मिश्रित 1008.26
- मिलायट  
अविशुद्धता 219.3  
धातु खोट 98.5
- मिलावट करना  
खोट मिलाना 98.9
- मिलायटी  
अविशुद्ध 219.8  
खोटा [खोटी] 98.13
- मिला होना  
परिचित होना 704.15
- मिलिंद  
भ्रमर 122.33
- मिलिग्राम  
मिलिग्राम 962.51 ⇨
- मिलिग्राम (अं)  
मिलिग्राम 962.51

### मिलिटरी (अं)

- सोना 932.1
- मिली भगत  
साँठगाँठ 827.9
- मिलीमीटर  
मिलीमीटर 959.16 ⇨
- मिलीमीटर (अं)  
मिलीमीटर 959.16
- मिले क्लबम  
मार्च 1083.11
- मिलीनी  
धातु खोट 98.5  
मिलनी 800.35  
समागमन 694.17  
सम्मिश्रण 1008.12
- मिल्क पीट (अं)  
घाय काफ़ी बरतन सूधी 680.20
- मिल्की  
जमींदार 553.14
- मिल्कीयत  
जमींदारी 553.13
- मिल्लत  
जाति 730.1  
दल 691.1  
धर्म 735.1  
परस्परता 703.1  
संगति 696.1  
संस्था 692.1
- मिशान (अं)  
ईसाई मठ 745.10  
प्रतिनिधि मंडल 888.28  
विमान उड़ान 1081.11  
संस्थान 692.3  
सैनिक उड़ान 1081.16
- मिशानरी (अं)  
ईसाई धर्म प्रचारक 744.32
- मिशनह  
मिशनह 739.17 ⇨
- मिशना (अं)  
मिशनह 739.17
- मिश्र  
खोटा [खोटी] 98.13  
महान जन 839.2  
सम्मिश्रित 1008.26
- मिश्र इस्पात  
मिश्र इस्पात 93.12 ⇨
- मिश्रक  
सम्मिश्रक 1008.27
- मिश्र कथावस्तु  
कथावस्तु प्रकार सूधी 486.7
- मिश्रज  
खच्चर 127.32
- मिश्रण  
फेंटाई 195.13  
मिश्रण 1008.1 ⇨  
सम्मिश्रण 1008.12  
सम्मिश्रितता 1008.13

### मिश्रण अभाव

- अमिश्रण 1008.17
- मिश्रण कर्ता  
सम्मिश्रक 1008.27
- मिश्रणहीनता  
विशुद्धता 219.2
- मिश्र धातु  
मिश्र धातु 93.3 ⇨
- मिश्र पुष्पा  
मेथी 281.28
- मिश्र राग  
संकर राग 457.19
- मिश्र संख्या  
नवोत्तर संख्या 948.37
- मिश्रातु (प्र)  
मिश्र धातु 93.3
- मिश्रामिश्र  
योगिक 1008.10
- मिश्रायस  
इस्पात 93.11
- मिश्रित  
खोटा [खोटी] 98.13  
वर्ण संकर 731.40  
सम्मिश्रित 1008.26
- मिश्रित अनाज  
मिश्रित अनाज 187.19 ⇨
- मिश्रितता  
रग संकरता 730.13  
सम्मिश्रितता 1008.13
- मिश्रित धागा  
मिश्रित धागा 569.21 ⇨
- मिश्रित न होना  
मिश्रित न होना 1008.24 ⇨
- मिश्रित राग  
संकर राग 457.19
- मिश्रित होना  
धुलना 1008.21  
सम्मिश्रित होना 1008.19
- मिश्रिताभास राग  
सालंग राग 457.20
- मिश्री  
मिसरी 280.19
- मिश्री घोलना  
मिष्ट भाषण करना 431.5
- मिश्रेया  
सोआ 189.37  
सीफ 281.36
- मिष  
बहाना (मकर) 495.4
- मिष्ट  
मिष्ट स्वभावी 837.12  
मीठा [मीठी] 280.30
- मिष्टता  
मिष्ट स्वभाव 837.3  
सीमनस्य 705.18
- मिष्ट भाषण  
मिष्ट भाषण 431.3 ⇨

### मिष्ट भाषण करना

- मिष्ट भाषण करना 431.5 ⇨
- मिष्टभाषिणी  
मिष्टभाषिणी 431.9 ⇨
- मिष्टभावी  
मिष्टभावी 431.8 ⇨
- मिष्ट स्वभाव  
मिष्ट स्वभाव 837.3 ⇨
- मिष्ट स्वभावी  
मिष्ट स्वभावी 837.12 ⇨
- मिष्टात्र  
मिष्टात्र 203.1 ⇨
- मिस  
अध्यापिका 323.9  
कारण 507.3  
प्रतियोगिता 707.2  
बहाना (मकर) 495.4  
बहाने से 495.17
- मिस (अं)  
अविवाहित स्त्री उपाधि सूधी 856.5
- मिसकीन  
असहाय 701.8
- मिसकीनी  
वियशता 901.3
- मिसरा  
अर्घारा 949.18  
काव्य पदांश सूधी 452.48  
शेअर आधा भाग 452.29
- मिसरी  
मिसरी 280.19 ⇨
- मिसरी: कूजा  
मिसरी कूजा 280.20 ⇨
- मिसाइल  
दूरगामी राकेट 1075.2
- मिसाल  
उदाहरण 309.6  
उपमा 309.7  
मिसाल के तौर पर  
उदाहरणत 309.25
- मिसिल  
दस्ता 932.24  
नत्थी 417.12  
नत्थी फ़ाइल 417.2  
फ़ाइल 417.1
- मिसिल (अं)  
दूरगामी राकेट 1075.2
- मिसिलख़्याह  
पेशकार 874.29
- मिसिज़ (अं)  
विवाहित स्त्री उपाधि सूधी 856.6
- मिस्कोट  
गुप्त परामर्श 332.4  
भोज 183.1  
बडचंत्र 827.8
- मिष्ट (अं)  
कोहरा 90.10
- मिस्टर (अं)  
पुरुष उपाधि सूधी 856.2

स्तत्र  
मिस्तर 559.28 ⇨  
स्तरी  
कुशल भूमिक 651.20  
मरम्मत कमी 538 9  
राजगीर 599 20  
स्तरीस्थाना  
मरम्मत घर 538 3  
स्तरीगीरी  
मरम्मत कर्म 538 2  
राजगीरी 599 19  
स्तरी घर  
मरम्मत घर 538 3  
स्तमार  
ढहा [ढही] 539 17  
भजित 539 12  
रुषी  
मिसरी 280 19  
स्त  
रादृश्य 309 20  
सादृश्य उक्ति सूची 309 26  
स्तसा  
गेहूँ चना 187 20  
मिथित अनाज 187 19  
स्तसा कुस्ता  
निर्धन आहार 197 8  
स्तसी  
मिस्ती 225 27 ⇨  
स्तसी काजल  
शुगार 222 1  
स्तसी रंजन  
सोलह सिगार सूची 222 3  
स्तहयना  
मिथकाना 120 6  
स्तिका  
तुषार पात 90 9  
हिम 90 1  
स्तहिर  
मेघ 55 1  
वायु 85 1  
सूर्य 8 1  
स्तहिराण  
शिव 767 1  
स्तहिराभ  
मेहराब 611.29  
स्तहिरायली  
मेहराब 611 29  
तिग  
बीज गिरी 112 2  
बीजी 191 15  
तिगनी  
पशु विच्छा 216 6  
तिगी  
गिरी 191 14  
बीजी 191 15  
तिज  
मिडाई 541.3

मीजना  
मीडना 541 7  
मीड  
मिडाई 541 3  
मीडना  
मसलाना 541 6  
मीडना 541 7 ⇨  
मीमी  
मिमियाहट 298 25  
मीह  
वर्षा 54 5  
मी  
वर्षा 54 5  
मीआद  
नियत काल 39 1  
मीजना  
मीडना 541 7  
मीजान  
जोड़ फल 954 3  
परिकलन 953 9  
मीट (अँ)  
खाद्य मास 206 11  
मीटर  
कपड़ा मापी 959 4  
मीटर 959 8 ⇨  
मीटर 959 15 ⇨  
मीटर (अँ)  
मीटर 959 8  
मीटर 959 15  
लबाई माप एकक 958 10  
मीटर 1,852  
फेदम 959 24  
मीटर. 1,852  
समुद्री मील 959 26  
मीटिंग (अँ)  
भेट 436 4  
सभा 694 1  
मीट्रिक टन  
मीट्रिक टन 962 52 ⇨  
मीट्रिक टन (अँ)  
मीट्रिक टन 962 52  
मीठा  
मधुरय्य 280 11  
मिष्टान्न 203 1  
मीठा [मीठी]  
कालजात 62 17  
कामल स्वभावी 837 11  
मधुर स्वरीय 299 25  
माधुर्यपूर्ण 157 9  
मिष्ट स्वभावी 837 12  
मीठा [मीठी] 280.30 ⇨  
श्रुतिप्रिय 294 25  
सुरीला [सुरीली] 459 38  
मीठा करना  
मीठा करना 280.28 ⇨  
मीठा ठग  
मित्रद्रोही 827 20

मीठा नीवू  
चकोतरा 190 18  
सतरा 190 34  
मीठा नीम  
करी पत्ता 281 11  
मीठा पकौड़ा  
पुआ 203 20  
मीठापन  
मिठास 280 1  
मिष्ट स्वभाव 837 3  
सीमनस्य 705 18  
मीठा पानी  
पेय जल 88 7  
लैमनेड 208.10  
मीठा पुआ  
पुआ 203 20  
मीठा बोलना  
मिष्ट भाषण करना 431 5  
मीठा लगना  
मीठा लगना 280 27 ⇨  
मीठा सच  
प्रिय सत्य 820 7  
मीठा स्वभाव  
कौमल कपड़ा 837 2  
मिष्ट स्वभाव 837 3  
मीठी ईद  
ईदुल फितर 57 46  
मीठी गाली  
सीठना 800 51  
मीठी गोली  
मिठाई गोली 203 51  
मीठी घुरी  
मित्रद्रोही 827 20  
मीठी धूप  
शरद 287 9  
मीठी बात  
चाटुक्ति 841 16  
मीठी बात करना  
चाटुकारिता करना 841 26  
मीठी बोली  
मिष्ट भाषण 431 3  
मीठी रोटी  
शीरमाल 202 20  
मीठी सिवइयौ  
मीठी सिवइयौ 203 29 ⇨  
मीठे बोल  
मिष्ट भाषण 431 3  
मीड़  
आरोह अवरोह क्रम 458 2  
गमक 458 11  
मीड़ 460 10 ⇨  
मीडियम (अँ)  
मझोला साइज 961 12  
मीडियम देव  
मीडियम देव 1040.10 ⇨  
मीडियम देव (अँ)  
मीडियम देव 1040 10

मीडियम शोट  
मीडियम शोट 472 19 ⇨  
मीडियम शोट (अँ)  
मीडियम शोट 472 19  
मीडियम साइज (अँ)  
मझोला साइज 961 12  
मीत  
पुरुष मित्र 705 2  
बाल मित्र 705 12  
मीता  
पुरुष मित्र 705.2  
बाल मित्र 705 12  
मीथेन  
मीथेन 86 9 ⇨  
मीथेन (अँ)  
मीथेन 86 9  
मीन  
मछली 125 1  
मीन (अँ)  
मध्यक राशि 947 12  
मध्यक राशीय 947 26  
मीनकेतु  
कामदेव 773 12  
पंच कामदेव सूची 773 13  
मीनगंधा  
सत्यवती 771 95  
मीनध्यज  
कामदेव 773 12  
मीननयन  
मीननयन 158 18 ⇨  
मीननयना  
मीननयना 158 19 ⇨  
मीनपख  
मीनपख 151 6 ⇨  
मीनपक्ष  
मीनपख 151 6  
मीनपक्ष 483 18 ⇨  
मीन पादुका  
मीनपक्ष 483 18  
मीन मेख करना  
दोष देखना 843 18  
मीन राशि  
राशि सूची 4 8  
मीन सी लैवल (अँ)  
माध्य समुद्र उत्तल 985 7  
मीना  
इनामल 290 11  
मद्य 209 1  
मद्य कुभ 209 37  
स्मारक प्रकार सूची 77 13  
मीना कर्मी  
मीनागर 566 5  
मीनाकार  
मीनागर 566 5  
मीनाक्ष  
मीननयन 158 18  
मीनाक्षी  
मीननयना 158 19

## मीनागर

### मीनागर

मीनागर 568.5 ⇨

### मीना बाज़ार

रत्नहाट 566 12

### मीनार

प्रशस्ति स्तंभ 255 15

मीनार 611 9 ⇨

### मीनालय

समुद्र 24 1

### मीमांसक

मीमांसक 427 30 ⇨

### मीमांसा

कला समीक्षा 398 3

मीमासा 427 12 ⇨

वेदोपांग सूची 740 43

### मीमांसाकार

मीमांसक 427 30

### मीमांसा दर्शन

छह आस्तिक दर्शन सूची 760 28

### मीमियोग्राफ (अ)

अनुलिपि प्रकार सूची 414 6

### मीमो (अ)

केश मीमो 632 26

### मीयाद

नियत काल 39 1

### मीर

गृहपति 235 5

जयी 912 15

ताश बड़ा पत्ता 479 16

दल नायक 852 6

घनाढ्य व्यक्ति 626 5

नेता 346 2

पदाधिकारी 652 4

पुरुष उपाधि सूची 856 2

मुखिया 852 7

सभापति 694 18

सामत 882 32

सार्धपति 657 14

### मीर अज़

पेशकार 874 29

### मीर अली

अली 791 5

### मीर मुंशी

हैड क्लर्क 652.37

### मीर वाइज़

मीर वाइज़ 744.26 ⇨

### मीर वाज़

मीर वाइज़ 744 26

### मीरास

उत्तराधिकार 623 1

### मीरी

दल नायकता 852 5

प्रथम स्थानीय 707 11

### मीरे अरब

अली 791 5

### मीरे काफ़िला

सार्धपति 657 14

### मीरे बहर

नी प्रभु 1080 15

### मीरे महफ़िल

सभापति 694 18

### मील

मील 959 25 ⇨

मील: 1.150779

समुद्री मील 959 26

मील: 1/8

फरलाग 959 23

मील: 1,92,00,00,00,00,000

पारसक 959 30

मील: 2 (लगभग)

कोस 959 21

मील का पत्थर

मील का पत्थर 1067 10 ⇨

### मीलन

मुकुलन 120 1

सकुघन 980 9

मील प्रति घंटा

गति माप 958 26

### मीलित

मुकुलित 120 8

### मीसोट्रोन (पुराना नाम) (अ)

मीसोन 78 19

### मीसोन

मीसोन 78 19 ⇨

### मीसोन (अ)

मीसोन 78 19

### मीह

वर्षा 54 5

### मैंगरा

मैंगरा 559 29 ⇨

मुंगदर 485 16

### मैंगरी

मैंगरी 559 30 ⇨

### मैंगीरा

मूंग बड़ी 192 16

### मुंज

सरकंडा 597 11

### मुंड

असुर सूची 783 8

केशहीन सिर 137 17

क्षीर कर्मी 224 2

नरमुंड 140 2

पल्लवहीन वृक्ष 111.26

राहु 6 4

सिर 140 1

### मुंडक

क्षीर कर्मी 224 2

### मुंडक उपनिषद

उपनिषद सूची 740 13

### मुंड चणक

मटर 189 31

### मुंडन

केश मुंडन 224 5

### मुंडन कर्ता

क्षीर कर्मी 224 2

### मुंडनपूर्व केश

जन्मजात केश 137 2

### मुंडन संस्कार

मुंडन संस्कार 798 18 ⇨

### मुंडन संस्कार (दे.)

केश मुंडन 224 5

### मुंडन होना

मुंडन होना 798 37 ⇨

### मुंडना

मुंडन होना 798 37

### मुंडमाल

मुंडमाला 228 37

### मुंडमाला

मुंडमाला 228 37 ⇨

### मुंडमाली

शिव 767 1

### मुंडहीन

सिरहीन 140 24

### मुंडा

आदि 126 13

गुरगाबी 588 21

### मुंडा [मुंडी]

केश मुंडित 224 13

केशहीन 137 20

### मुंडा [मुंडी]

केशहीन 137 20

### मुंडा [मुंडी]

गजा 137 30

मुंडित 798 44

### मुंडा [मुंडी]

सींगहीन 140 26

### मुंडाई

केश मुंडन 224 5

ठगी 864 31

### मुंडासा

पगड़ी 584 13

### मुंडित

मुंडित 798.44 ⇨

### मुंडिता

संन्यासिनी 790 12

### मुंडिया

संन्यासी 790 11

### मुंडी

कटा डठल खूँटी 114 2

क्षीर कर्मी 224 2

वेनागरी हस्तलेख शैली सूची 412 9

मुंडित 798 44

मुंडी 409.9 ⇨

विधवा 804 15

शिव 767 1

### मुंडू

आवासीय सेवक 651 4

### मुंडेर

अरुवाल 1073 22

मुंडेर 611 4 ⇨

### मुंडेश

तट बंध 25 19

मुंडेर 611 4

### मुंडेरी

मुंडेर 611.4

### मुंडो

विधवा 804 15

### मुंतख़ब

उत्तम 313 13

घयन कृत 1009 18

निर्वाचित 888 34

### मुंतज़िर

प्रतीक्षारत 1057 9

### मुंदन

मुकुलन 120 1

### मुंदना

मुकुलित होना 120 5

### मुंदरी

अँगूठी 228 2

### मुंदा [मुंडी]

मुकुलित 120 8

### मुंदाई

मुकुलन 120 1

### मुंदे मुंदे

मुकुलितत 120 13

### मुंबई

महाराष्ट्र राजधानी 28 59

### मुंशी

क्लर्क 652 36

चिट्ठा लेखक 632 23

दस्तावेज़ लेखक 412 24

याचिका लेखक 874 31

लिपिक 412 4

लेखापाल 632 32

संधिव 652 23

सुलेखक 412 47

### मुंशीगीरी

क्लर्क 652 35

लेखा पालन 632 31

### मुंह

अतर्क्यास 972 13

किनारा 1000 10

खड़ा तट 25 16

छिद्र 271 6

छिद्र मुख 271 15

दिशा 29 1

दिशा में 29 35

द्वार 608 1

नल टोटी 19 28

नोज़ल 19 30

बरतन टोटी 680 24

मुख मंडल 140 11

मुख विवर 143 1

### मुंह औंधेरे

प्रभात में 47 21

### मुंह अखरी

मीथिक 412 43

### मुंह उघाड़ना

परदा न करना 590 15

### मुंह करना

अभिमुख होना 1023 5

- मुंह कसियाना**  
कसीला लगना 276 5
- मुंह काला करना**  
पाप करना 812 8  
व्यभिचार करना 806.8
- मुंह के बल**  
अधोमुखतः 1023 18
- मुंह को लगाम देना**  
मीन होना 429 14
- मुंह खट्टा होना**  
खट्टा लगना 277 16
- मुंहघका [मुंहघकी]**  
अत्यधिक लाड़ा 721 16  
मुंहलगना [मुंहलगी] 428 23
- मुंहघकापन**  
अत्यधिक लाड़ापन 721 5
- मुंहघोर**  
डोपू 845 13
- मुंह: छाला**  
मुंह छाला 167 10 ⇨
- मुंहघुट**  
घुटभाषी 432 14  
मुंहजोर 708.15
- मुंह ज़बानी**  
मौखिक 412 43
- मुंहज़बानी याद**  
रटा [रटी] 356 23
- मुंहज़बानी याद करना**  
रटना 356.14
- मुंह जलना**  
चरपरा लगना 278 10
- मुंह जुठलाना**  
कम खाना 182 12
- मुंहजोर**  
अत्यधिक लाड़ा 721.16  
मुंहजोर 708.15 ⇨  
वाघाल 428 22
- मुंहजोरी**  
मुंहजोरी 708 8 ⇨  
वाघालता 428 5
- मुंहजोरी करना**  
मुंहजोरी करना 708.12 ⇨
- मुंहतोड़ जवाब**  
करारा उत्तर 334.2  
गुरुतर प्रतिप्रहार 918 5
- मुंह दिखाई**  
मुंह दिखाई 800.36 ⇨
- मुंहदेखा [मुंहदेखी]**  
औपचारिकतापूर्ण 184.10
- मुंहदेखी बात**  
उल्लाप 435.11  
घाटुक्ति 841.16
- मुंहदेखी बात करना**  
उल्लाप करना 435.23  
घाटुकारिता करना 841 26
- मुंहनाल**  
नल: टोटी 19.28
- मुंह नीचे पीव ऊपर होना**  
अधोमुख होना 1023 8
- मुंहफट**  
घुट 734 20  
घुटभाषी 432.14  
मुंहजोर 708.15
- मुंह फेरना**  
विमुख होना 1023 6
- मुंहबंद**  
निरुत्तर 335 10
- मुंहबैधा**  
जेन साधु 790 24
- मुंहबोला [मुंहबोली]**  
मुंहबोला [मुंहबोली] 716.21 ⇨
- मुंहबोला संबंध**  
मुंहबोला संबंध 716 12 ⇨
- मुंहबोली**  
मुंहबोली बहन 723 24
- मुंहबोली बहन**  
मुंहबोली बहन 723 24 ⇨
- मुंह भराई**  
रिन्धत 865 9
- मुंहमौगी [मुंहमौगी]**  
मनोवाञ्छित 359 27
- मुंह मीठा होना**  
मीठा लगना 280 27
- मुंह में धरना**  
ग्रसना 181 37
- मुंह में पानी आना**  
मीठा लगना 280 27
- मुंह मोड़ना**  
कामचोरी करना 490.7  
प्रलायन करना 916 10
- मुंहलगना [मुंहलगी]**  
अत्यधिक लाड़ा 721 16  
मुंहलगना [मुंहलगी] 428 23 ⇨
- मुंह ली लेना**  
मीन होना 429.14
- मुंहहा (जेसे: दोमुहा)**  
सिरयुक्त 140 23
- मुंहामुह**  
ऊपर तक 1004 17
- मुंहाना**  
मुंहाना 165.12 ⇨
- मुंहरी (जेसे: दोमुही)**  
सिरयुक्त 140 23
- मुअज्जम**  
प्रधान 852 10
- मुअज़्ज़म**  
सर्वाच्च सत्ताधारी 899.5
- मुअज़्ज़िन**  
मुअज़्ज़िन 744.20 ⇨
- मुअत्तल**  
निलंबित 653.35
- मुअत्तली**  
सेवा निलंबन 653 14
- मुअम्मा**  
पहेली 333 13
- रहस्योक्ति** 823.6
- मुअस्ला**  
मुल्ला 744 23
- मुआ**  
पत्नीपुत्रहीन पुरुष 236.19
- मुआ [मुई]**  
मृत 249 23
- मुआक़**  
क्षमाप्राप्त 872.12
- मुआक़िक**  
अनुसार 514.26  
सदृश्य 309 20
- मुआक़िकत**  
अनुकूलता 885.8
- मुआ बावल**  
स्पज 1002 11
- मुआयना**  
निरीक्षण 284.16  
परीक्षा 322 11
- मुआयज़ा**  
अर्थ दंड 870 7  
क्षति पूर्ति 634 16  
पारिश्रमिक 643 8  
मूल्य 664 1
- मुआहिदा**  
अनुबध 339.1  
अनुबंध पत्र 339 2  
संधि 906 5
- मुई भिट्टी**  
शव 254 1
- मुक्रदमा**  
अभियोग 875.3  
मुक्रदमा 875.1 ⇨
- मुक्रदमा करना**  
अभियोग लगाना 875 20
- मुक्रदमा करने वाला**  
अभियोक्ता 875 5
- मुक्रदमा चुनना**  
मुक्रदमा चुनना 876.22 ⇨
- मुक्रदमा चुनवाई**  
मुक्रदमा चुनवाई 876.1 ⇨
- मुक्रदमेशाज़**  
मुक्रदमेशाज़ 875.24 ⇨
- मुक्रदम**  
ग्राम: मुखिया 892.6  
पूर्व कालीन 60.14
- मुक्रदमा**  
मुक्रदमा 875 1
- मुक्रदर**  
प्रारब्ध 260.1  
भाग्य 260.14
- मुक्रदर आजमाई**  
भाग्य परीक्षा 260.16
- मुक्रदस**  
पापहीन 813.9
- मुक्रदस किताब**  
अपीरुधेय धर्मग्रंथ 738.3
- मुक्रना**  
समाप्त होना 942 12
- मुक्रम्मल**  
समाप्त (कार्य) 522.4
- मुक्ररन**  
अपराध अस्वीकृति 876.10  
अपलाप 435 10  
मुक्ररन 338 10 ⇨
- मुक्ररन (दे.)**  
वचन भंग 338.16
- मुक्ररना**  
अपराध स्वीकार न करना 876 25  
अपलाप करना 435.22  
मुक्ररना 338.25 ⇨  
वचन तोड़ना 338 30
- मुक्ररनी**  
विपरीतोक्ति 434 10
- मुक्ररने वाला**  
मुक्ररने वाला 338.41 ⇨
- मुक्ररा [मुक्ररी]**  
मुक्ररा [मुक्ररी] 338 40 ⇨
- मुक्ररमी**  
पत्रांश स्त्रोत्र आदि सूची 444 41
- मुक्ररर**  
अनुबंधित 339 32  
नियत 68 16 .  
नियुक्त 653 32  
निर्धारित 328.14
- मुक्ररर**  
पुन 73 5  
पुनरुक्ति 434 6
- मुक्ररर**  
प्रारब्धाधीन 260 27
- मुक्ररर**  
शाबाशी उद्गार सूची 841.40
- मुक्रलाया**  
गीना 800 11
- मुक्रा [मुक्री]**  
समाधान कृत 877 24
- मुक्रादम**  
दल नायक 852.6  
अधिक अध्यक्ष 652 21
- मुक्राबला**  
आमना सामना 915.3  
खेल प्रतियोगिता 475 15  
तुलना 309 1  
प्रतिद्वंद्विता 707 1  
प्रतियोगिता 707 2  
प्रतिरोध 915 1  
मुठभेड़ 915 2  
युद्ध 905.4  
समकक्षता 851.1  
समान प्रतियोगिता 707.3
- मुक्राबला करना**  
प्रतियोगिता करना 707.6  
प्रतिरोध करना 915.4  
मुठभेड़ करना 915 8

## मुक्ताबले

### मुक्ताबले

तुलना मे 309 23

### मुक्ताबले का

समान (प्रतियोगी) 707 10

### मुक्ताबले मे

तुलना मे 309 23

प्रतिद्विदितापूर्वक 707 15

### मुक्ताबल्लन

तुलना मे 309 23

प्रतियोगितापूर्वक 707 16

### मुक्ताबिल

आमने सामने 915 13

विरुद्धत 886 8

### मुक्ताबिला

विरोध 886 4

### मुक्ताम

पता 444 13

मार्गस्थ पाथशाला 1090 26

वाद्य परदा 461 99

स्थान 33 1

### मुक्ताम करना

अस्थायी वास करना 618 21

### मुक्तामी

क्षेत्र स्तरीय 35 2

### मुक्तियाना

मुक्ता लगाना 918 28

### मुक्तिर

अनुबध कर्ता 339 35

### मुक्तिर

अनुबध कर्ता 339 35

अपराध स्त्रीकर्ता 876 28

### मुकुन्द

कुबेर नवनिधि सूची 779 12

कृष्ण 771 1

पारा 94 9

विष्णु 768 1

### मुकुट

मुकुट 584 14 ⇨

मीर 802 18

### मुकुटधर

मुकुटधारी 899 18

### मुकुट धारण

मुकुट धारण 899 17 ⇨

### मुकुटधारी

मुकुटधारी 899 18 ⇨

### मुकुट धारी

राजा 882 6

### मुकुट मणि

मुकुट मणि 584 16 ⇨

### मुकुट हरण

सत्ता च्युति 902 3

### मुकुटेश्वर

शिवलिंग सूची 746 17

### मुकुर

घाक डडा 559 18

दर्पण 283 13

दर्पण लगी अंगूठी 228 3

### मुकुल

अमलतास 13 3

कली 115 5

मुकुलित 120 8

मीलांसिरी 13 20

### मुकुलन

मुकुलन 120 1 ⇨

### मुकुलित

मुकुलित 120 8 ⇨

### मुकुलिततः

मुकुलिततः 120 13 ⇨

### मुकुलित न होना

बद न होना 119 8

### मुकुलित होना

मुकुलित होना 120 5 ⇨

### मुक्कम मुक्का

घुंसाघुंसी 905 20

### मुक्का

मुक्का 150 7 ⇨

मुक्का 918 17 ⇨

### मुक्का जमाना

मुक्का लगाना 918 28

### मुक्का मारना

मुक्का लगाना 918 28

### मुक्कामुक्की

घुंसाघुंसी 905 20

### मुक्का लगाना

मुक्का लगाना 918.28 ⇨

### मुक्केबाज़

बोक्सर 486 6

### मुक्केबाज़ी

घुंसाघुंसी 905 20

बोक्सिंग 486 5

### मुक्केश

ज़री 569 13

### मुक्त

अतुकात 452 58

अधिग्रहण त्यक्त 639.25

अननुबधित 338 45

अपराध मुक्त 869.9

अवरोधहीन 1049 13

ईश्वर 764 1

उन्मुक्त 1015 9

ग्रंथि मुक्त 574 12

च्युत 653.36

छदहीन 452 54

नियत्रणहीन 900 8

सचालित (शस्त्र) 930 18

### मुक्तक

मुक्तक काव्य 451 13

### मुक्तक काव्य

मुक्तक काव्य 451.13 ⇨

### मुक्तकच्छ

बौद्ध भिक्षु 790 27

### मुक्तकरण

उन्मोचन 1015 1

### मुक्त करना

उन्मुक्त करना 1015 7

### मुक्तकेशी

काली 776 3

### मुक्त छंद

छंदमुक्त पद्य 451 6

मुक्त छंद 452 2 ⇨

### मुक्तता

उन्मुक्तता 1015 4

### मुक्त दास

मुक्त दास 651 16 ⇨

### मुक्तदोष

अपराध मुक्त 869 9

### मुक्त पद्य

छंदमुक्त पद्य 451 6

### मुक्त माल

मोती माला 228 33

### मुक्तयसन

नग्न 590 16

### मुक्तयेणी

द्रौपदी 771 64

### मुक्तशृंग

रोहू 125.11

### मुक्तसंग

परिव्राजक सन्यासी 790.14

मोक्षगत 257 7

### मुक्तहस्त

दानवीर 641 28

व्ययशील 644 22

### मुक्तहस्तता

दानीत्व 64.2

### मुक्त हास

अट्टहास 384 2

### मुक्तहासी

अट्टहासी 384.16

### मुक्तांबर

दिग्बर 737 3

### मुक्ता

मनका 228 48

मोती 97.2

### मुक्तागार

सीपी 124 19

### मुक्तात्मा

मोक्षगत 257.7

### मुक्तादाम

मोती माला 228 33

### मुक्ताप्रसू

सीपी 124 19

### मुक्ता फल

प्रवाल वृक्ष 97 8

### मुक्ता मणि

मोती 97 2

### मुक्ता माला

मोती माला 228 33

### मुक्तायली

मोती माला 228.33

### मुक्तावास

सीपी 124 19

### मुक्ताहार

मोती माला 228 33

### मुक्ति

अपराध मुक्ति 869 4

उन्मुक्ति 1015 3

कुठा मोचन 352 12

मोक्ष 257 1

स्वाधीनता 900 1

### मुक्ति दाता

सकट मोचक 910 10

### मुक्तिप्रद

मोक्षप्रद 257 8

### मुक्ति मार्ग

मोक्ष साधन 257 3

### मुक्तेश्वर

शिवलिंग सूची 746 17

### मुक्त्तिका

मोती 97 2

### मुख

अगला डैक 1073 28

अग्रभाग 994 9

द्वार 608 1

मुख मडल 140 11

मुख विवर 143 1

सिर 140 1

मुख (जैसे: पंचमुख)

सिरयुक्त :40.23

### मुखः 1

शरीर नौ रंघ सूची 138 3

### मुखधपल

वाघाल 428 22

### मुखज

ब्राह्मण 731.13

### मुख जाली

मुख जाली 555.28 ⇨

### मुखका

गीत आरम्भिक भाग 451 24

गीत स्थायी 451.23

मुख मडल 140 11

### मुखतार

अधिकार प्रदत्त व्यक्ति 897 9

अधिकार भागी 897 16

मुखतार 874 25 ⇨

### मुखतारनामा

प्रदत्त अधिकार पत्र 897 8

### मुखताल

गीत स्थायी 451 23

### मुखदूषण

प्याज़ 281 24

मुख ध्वनि (जैसे: सीटी, पक्षी स्वर)

अव्याकृता वाचा 299 3

### मुखपट

घुंघट 591 3

बुरका नकाब 591.5

### मुखपाक

मुँह छाला 167.10

### मुखप्रिय

लींग 281 30

### मुख बंधन

भूमिका 447 8



**मुखबिबर**  
गुप्तघर 866 12  
**मुखबिरी**  
गुप्तघरी 866 10  
घुगलशोरी 843 11  
**मुख भंगिमा**  
मुख मुद्रा 464 31  
**मुख मडल**  
मुख मडल 140 11 ⇨  
**मुख मंडल चर्या**  
मुख मडल चर्या 225 6 ⇨  
**मुख मडल प्रसाधन**  
मेकअप कर्म 225 7  
**मुख मुद्रा**  
मुख मुद्रा 464 31 ⇨  
**मुख रंध**  
मुख विवर 143 1  
**मुखर**  
ध्वनिपूर्ण 294 20  
मुखर 428 11 ⇨  
मुखर 428 21 ⇨  
वाद्याल 428 22  
शश्व 461 78  
**मुखरता**  
मुखरता 428 4 ⇨  
वाद्यालता 428 5  
**मुखर होना**  
मुखर होना 428 10 ⇨  
**मुखरागकार**  
मेकअप मेन 464 40  
**मुखरित**  
ध्वनित 294 21  
**मुखरी**  
मोहरी 586 23  
लगाम 555 17  
**मुखलांगल**  
सूअर 127 81  
**मुख वाद्य**  
शुषिर वाद्य 461 20  
**मुख विवर**  
मुख विवर 143 1 ⇨  
**मुख व्रण**  
मुँह छाला 167 10  
**मुखशोधन**  
दारचीनी 281 20  
**मुख त्वाव**  
लार 215 24  
**मुखाकृति**  
मुख मडल 140 11  
**मुखाग्नि**  
घिताग्नि 254 13  
शवदाह 253 4  
**मुखाग्र**  
रटा [रटी] 356.23  
**मुखातिब**  
अभिमुख 1023 9  
सावधान 497 4

**मुखातिब हो कर**  
अभिमुखत 1023 15  
**मुखातिब होना**  
सबोधित करना 430 15  
**मुखारथिद**  
सुंदर मुखाकृति 58 2  
**मुखालक्रत**  
विरोध 886 4  
**मुखातिक**  
विपक्षधर 886 6  
**मुखातिक**  
विपरीत 310 7  
**मुखातिक**  
विरुद्धता 886 8  
**मुखातिक**  
विरोधी 886 7  
शत्रु 706 2  
**मुखावरण**  
घूंघट 591 3  
**मुखिया**  
अगुआ 346 3  
गृहपति 235 5  
नेता 346 2  
पचायत अध्यक्ष 892 5  
मुखिया 852 7 ⇨  
**मुखिया (दे)**  
ग्राम मुखिया 892 6  
**मुखियापन**  
दल नायकता 852 5  
**मुखी (जैसे पंचमुखी)**  
सिरयुक्त 140 23  
**मुखीय**  
भ्रय 994 18  
**मुखेतर ध्वनि**  
वाजेतर ध्वनि 296 1  
**मुखौटा**  
मुखौटा 589.20 ⇨  
**मुखौटा लगाना**  
छद्म आवरण में होना 824 19  
**मुखतलिक**  
असदृश 310 6  
इतर 945 5  
**मुखतसर**  
राक्षित 980 24  
साराशिल 449 30  
**मुखतार**  
मुखतार 874 25  
**मुख्य**  
अध्यक्ष 652 14  
उत्तम 313 13  
प्रधान 852 10  
प्रधान लक्षणयुक्त 317 25  
महा अध्यक्ष 652 16  
मुख्य कोटीय 936 8  
**मुख्य अभिनेता**  
प्रमुख अभिनेता 464 7  
**मुख्य आहार**  
मुख्य आहार 199 5 ⇨

**मुख्य उप संपादक**  
संपादक सूची 445 15  
**मुख्य कथा**  
मुख्य कथा 466 10 ⇨  
**मुख्य कार्यालय**  
प्रधान कार्यालय 654 5  
**मुख्य कोटि**  
मुख्य कोटि 936 2 ⇨  
**मुख्य कोटीय**  
मुख्य कोटीय 936 8 ⇨  
**मुख्य गायक**  
मुख्य गायक 460 31 ⇨  
**मुख्य घटना**  
मुख्य घटना 466 14 ⇨  
**मुख्य दीवार**  
मुख्य दीवार 607 2 ⇨  
**मुख्य द्वार**  
मुख्य द्वार 608 7 ⇨  
**मुख्य न्यायमूर्ति**  
मुख्य न्यायमूर्ति 874 18 ⇨  
**मुख्य पंख**  
मुख्य पंख 151 5 ⇨  
**मुख्य पासा**  
मुख्य पासा 479 22 ⇨  
**मुख्य पुरुष**  
गृहपति 235 5  
नायक 467 5  
**मुख्य पृष्ठ**  
संपादकीय पृष्ठ 447 25  
**मुख्य बंदरगाह**  
मुख्य बंदरगाह 1069 10 ⇨  
**मुख्य बाज़ार**  
मुख्य बाजार 663 4 ⇨  
**मुख्य भाव**  
स्थायी भाव 358 3  
**मुख्य भेद**  
मुख्य कोटि 936 2  
**मुख्य मंत्री**  
मुख्य मंत्री 889 22 ⇨  
**मुख्य मनका**  
जपमाला बड़ा दाना 749 8  
मुट म मनका 228 49 ⇨  
**मुख्य मालम अधिकारी**  
उप पोताध्यक्ष 1080 17  
**मुख्य रस**  
प्रधान रस 455.2  
**मुख्य रेलमार्ग**  
मेन लाइन 1066 17  
**मुख्य लाइन**  
मेन लाइन 1066 17  
**मुख्य वर्ग**  
मुख्य कोटि 936 2  
**मुख्य वर्गीय**  
मुख्य कोटीय 936 8  
**मुख्य वर्ण**  
वैश्य 731 24  
**मुख्य शाहतीर**  
पोत रीढ़ 1073 37

**मुख्य संपादक**  
संपादक 445.15  
संपादक सूची 445 16  
**मुख्य सड़क**  
मुख्य सड़क 1063 34 ⇨  
**मुख्य स्तंभ**  
आधार स्तंभ 607 8  
**मुख्य स्वर**  
मुख्य गायक 450 31  
वादी स्वर 459 21  
**मुख्यार्थ**  
अभिधार्थ 426 4  
**मुख्यालय**  
प्रधान कार्यालय 654 5  
**मुग**  
पारसी 736 28  
**मुगदर**  
मुगदर 485 16 ⇨  
**मुगरा**  
मुंगरा 559 29  
**मुगरी**  
मुंगरी 559 30  
**मुगलाई मसाला**  
मुगलाई मसाला 281 4 ⇨  
**मुगल गार्डन (ऑ)**  
चौकोर उपवन 12 17  
**मुगलता**  
गलत फहमी 341 4  
**मुगदर**  
गदा 923 4  
मुगदर 485 16  
**मुग्ध**  
अति आनदित 382 20  
आकर्षित 1050 28  
आश्चर्यित 379 8  
भ्रमित 342 10  
लुब्ध 359 30  
वशीकृत 758 41  
**मुग्ध [मुग्धा]**  
आसक्त 365 5  
सम्मोहित 367 6  
**मुग्ध करना**  
सम्मोहन करना 367 5  
**मुग्धता**  
आश्चर्यितता 379 2  
**मुग्धा**  
मुग्धा नायिका 456 8  
**मुग्धा नायिका**  
मुग्धा नायिका 456 8 ⇨  
**मुयकुंद**  
मुयकुंद 771 78  
**मुघलका**  
जमानत 869 2  
**मुघामुघ**  
ऊपर तक 1004 17  
दुँसा [दुँसी] 1004 14  
**मुधिर**  
धर्म 773 32

## मुद्युक्त

**मुद्युक्त**  
मुद्युक्त 771.78  
**मुद्युक्त**  
मुद्युक्त 771.78 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु 136 5  
**मुद्यु**  
मुद्यु 136 10  
**मुद्यु**  
मुद्यु 136 10  
**मुद्यु**  
मुद्यु 136.10 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु 136 10  
**मुद्यु**  
मुद्यु 136 10  
**मुद्यु**  
कोरानि 1060 6  
संगीत नृत्य समा 468 4  
सभा 694 1  
**मुद्यु**  
अपराधी 861 14  
अभियुक्त 875 4  
सिद्धदोष 877 23  
**मुद्यु**  
मूर्ति 406 1  
**मुद्यु**  
शरीरतः 139 18  
**मुद्यु**  
हिद्यक 501 3  
**मुद्यु**  
लगानदार 553 3  
**मुद्यु**  
धर्मार्थ योद्धा 742 30  
**मुद्यु**  
मुद्यु 316.38  
**मुद्यु**  
मुद्यु 316.38 ⇌  
**मुद्यु**  
गठरी 674 2  
**मुद्यु**  
मोटाई 965.8  
**मुद्यु**  
जूना 218.14  
धुनकी बेलन 562 3  
**मुद्यु**  
छोटा पूला 686.20  
मुद्यु 150 8  
**मुद्यु**  
रिश्वत देना 865 19  
**मुद्यु**  
अल्प 942 13  
**मुद्यु**  
मुद्यु 150 8 ⇌  
**मुद्यु**  
टक्कर 1051.16  
मुद्यु 915.2 ⇌

**मुद्यु**  
मुद्यु करना  
मुद्यु करना 915.8 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु ग्रस्त  
मुद्यु ग्रस्त 915.12 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु होना  
मुद्यु होना 915.7 ⇌  
**मुद्यु**  
धुनकी बेलन 562 3  
मुद्यु 596 24  
**मुद्यु**  
सिहावलोकन करना 330 15  
**मुद्यु**  
दिशा परिवर्तन 1098 8  
**मुद्यु**  
नम्य 545 33  
**मुद्यु**  
अनुकूल होना 885 23  
अवनामित होना 1025 6  
दिशा बदलना 1098 18  
**मुद्यु**  
मोड़दार 974.23  
वक्र 974 16  
**मुद्यु**  
टर्न कफ 585 79  
**मुद्यु** [मुद्यु]  
मरोडा [मरोडी] 975 30  
वक्र 974 16  
**मुद्यु**  
तोड़ मरोड़ 975 13  
**मुद्यु**  
कपड़ा शिकन 975 8  
**मुद्यु**  
मोड़ 974 10  
**मुद्यु**  
मुद्यु 409 9  
सन्धासी 790 11  
**मुद्यु**  
धुमावदार रेखा 968 14  
**मुद्यु**  
मोड़ा 585 64  
स्कध 147 3  
**मुद्यु**  
मुद्यु 595.21 ⇌  
**मुद्यु**  
विषयक 437 15  
संबधित 715 11  
**मुद्यु**  
खुदा 666 14  
विधिय 310.8  
**मुद्यु**  
दत्तक पुत्र 716.6  
**मुद्यु**  
अभिपिता 720 12  
**मुद्यु**  
प्रभायित 511 13  
**मुद्यु**  
अनुसार 514.26  
सदृश्य 309 20

**मुद्यु**  
अधिकार दावा 897.5  
**मुद्यु**  
मुद्यु 799.5 ⇌  
**मुद्यु**  
अनुकूल 885.37  
सर्वसहमत 337 21  
सहमत 337 19  
**मुद्यु**  
मन तरंग 351.6  
**मुद्यु**  
अध्यापक 323.8  
**मुद्यु**  
आनदशील 382 19  
**मुद्यु**  
अर्थात् 426 41  
किंतु 507 16  
परतुकता उक्ति सूची 339 54  
**मुद्यु**  
आनदित 382 17  
**मुद्यु**  
कामुक 237 14  
मेढक 124 2  
**मुद्यु**  
मुद्यु 188 14  
**मुद्यु**  
मुद्यु 485 16  
**मुद्यु**  
मुद्यु मुनि सूची 789 17  
**मुद्यु**  
शत्रु 706 2  
**मुद्यु**  
काल 36 1  
दीर्घ काल 37 5  
नियत काल 39 1  
**मुद्यु**  
अवधियुक्त 39 9  
**मुद्यु**  
इच्छा 359 1  
उदर्य 508 2  
सदर्थ 437 3  
**मुद्यु**  
प्रतिवादी 875 12  
**मुद्यु**  
मुद्यु कर्ता 419.2  
**मुद्यु**  
छीपीगीरी 578 3  
मुद्यु 419.1 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु करना  
मुद्यु करना 419.12  
**मुद्यु**  
मुद्यु कर्ता 419.2 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु कर्मी 419.3 ⇌  
मुद्यु कर्मी 419.4 ⇌  
**मुद्यु**  
कला सूची 397 12

**मुद्यु**  
मुद्यु छाप 419.6 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु नील 289.52 ⇌  
मुद्यु पांडुलिपि 412.30 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु शीट 413 26  
**मुद्यु**  
मुद्यु ब्लॉक 419.11  
**मुद्यु**  
मुद्यु ब्लॉक 419.11 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु यंत्र 419 10 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु रंगव्य 290 16 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु लाल 289 64 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु लिपि 412 30  
**मुद्यु**  
मुद्यु गालय 419 5 ⇌  
**मुद्यु**  
टाइपसेटिंग 413 9  
**मुद्यु**  
फोट 413 22  
**मुद्यु**  
छाप 414 9  
मुद्यु 414 17 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु अंगूठी 414 16  
**मुद्यु**  
मुद्यु करना 414 23 ⇌  
**मुद्यु**  
मुद्यु 414 24 ⇌  
मुद्यु 419 13  
**मुद्यु**  
राज्यादेश 878 3  
**मुद्यु**  
मुद्यु अंगूठी 414 16  
**मुद्यु**  
अग मुद्यु 464 25  
अग मुद्यु 464 33  
अंगूठी 228 2  
अभिनय मुद्यु 464 30  
धिहन 407 1  
टाइप 413 13  
उप्या 414 12  
धर्म धिहन 407 7  
प्रतीक 408 1  
प्रतीक धिहन 408 2  
मुद्यु ब्लॉक 419 11  
मुद्यु 414 15 ⇌  
सिक्का 629.1  
**मुद्यु**  
मुद्यु अंगूठी 414.16 ⇌  
**मुद्यु**  
टाइप 413.13

- मुद्रा चिह्न**  
मुद्राक 414 17
- मुद्रा विनियम**  
मुद्रा विनियम 636.4 ⇐
- मुद्रिका**  
अंगूठी 228 2  
नामांकित अंगूठी 228 4  
सिक्का 629.1
- मुद्रिका मार्ग**  
रिंग रोड 1063 38
- मुद्रिणी**  
ललिता देवी 774 80
- मुद्रित**  
मुद्रांकित 414 24  
मुद्रित 419 13 ⇐
- मुद्रित करना**  
मुद्रित करना 419 12 ⇐
- मुद्रित प्रति**  
अनुलिपि प्रकार सूची 414 6  
मुद्रित प्रति 419 8 ⇐
- मुद्रित मूल्य**  
अंकित मूल्य 664 2
- मुद्रित्र**  
अनुलिपित्र 414 5  
मुद्रण यंत्र 419.10
- मुद्रित्र (औं)**  
प्रिटर 413 6
- मुनकर**  
मुकरन 338 10
- मुनकिर**  
मुकरने वाला 338 41
- मुनक्रका**  
मुनक्रका 191 11 ⇐  
मेया सूची 191 2
- मुनहस्सर**  
आधारित 1019.17
- मुनाबी**  
मुनादी 441 11 ⇐
- मुनादी करना**  
मुनादी करना 441.16 ⇐
- मुनादी वाला**  
मुनादी वाला 441.24 ⇐
- मुनाफा**  
लाम 646.2
- मुनाफाखोर**  
मुनाफाखोर 865.27 ⇐
- मुनाफाखोरी**  
मुनाफाखोरी 865.16 ⇐
- मुनाफाखोरी करना**  
मुनाफाखोरी करना 865 22 ⇐
- मुनासिब**  
अवसरानुकूल 70.14  
आवश्यकतानुकूल 524.22  
वैध 878.26  
संगत 438 6
- मुनि**  
अवाद्याल 429.26  
ऋषि 789.2
- गौतम बुद्ध** 793 1  
तपस्वी 789 14  
तीर्थंकर 792 1  
ध्यानी 331.12  
मुनि 787 17 ⇐  
मुनि 789 15 ⇐  
मीन 429 22  
मीन व्रती 429 24  
सात उपमान सूची 948 30
- मुनि कुमार**  
अल्पवयस्क ऋषि 789 3
- मुनि पितल**  
ताँबा 94 8
- मुनि पुंगव**  
महर्षि 789 4
- मुनिः पुत्र**  
देव गंधर्व 778 9
- मुनि भेषज**  
व्रत उपवास 748 1  
हड़ 281 37
- मुनियो**  
मुनियो 126 63 ⇐
- मुनियर**  
महर्षि 789 4
- मुनि विषयक**  
मुनीय 789 29
- मुनियूति**  
तपस्वी 789 14
- मुनि व्रत**  
तपस्या 756 21  
मीन व्रत 429 4
- मुनिश्रेष्ठ**  
महर्षि 789 4
- मुनि स्त्री**  
ऋषि स्त्री 789 24
- मुनींद्र**  
गौतम बुद्ध 793 1  
महर्षि 789 4
- मुनीम**  
क्लर्क 652 36  
लेखापाल 632 32  
वेतन वितरक 643 25
- मुनीमी**  
लेखा पालन 632.31
- मुनीय**  
मुनीय 789 29 ⇐
- मुनीश**  
गौतम बुद्ध 793 1  
महर्षि 789 4  
विष्णु 768 1
- मुनीश्वर**  
गौतम बुद्ध 793 1  
महर्षि 789 4  
विष्णु 768 1
- मुन्कर**  
नकीरेन सूची 256 11
- मुन्ग**  
सहजन 13 24
- मुन्ना**  
शिशु 230.3
- मुन्ना [मुन्नी]**  
पीना 949 35
- मुन्ना साइज़**  
बेबी साइज़ 961.9
- मुन्पू**  
शिशु 230 3
- मुन्प्य**  
अकृषित (अनाज) 187.22
- मुन्कलिस**  
कगाल 627 21  
निर्घन 627 20
- मुन्कलिसी**  
कगाली 627.7  
निर्घनता 627 5
- मुन्कस्मिल**  
नगर परिक्षेत्र 620 14  
विवरणपूर्वक 449 32
- मुन्क्रीय**  
कल्याणकारी 710 21  
हितकारी 712 13
- मुन्कत**  
निश्चुल्क 665 8
- मुन्कत का काम**  
बेगार श्रम 643 20
- मुन्कत का माल**  
अनजित सपत्ति 624 6
- मुन्कत की कमाई**  
अश्रम आय 643 3
- मुन्कत में**  
निश्चुल्कत 665 9
- मुन्कती**  
अनीपचारिक वेश 589.15  
निश्चुल्क 665 8  
मुन्कती 744.21 ⇐
- मुन्कतीः आदेश**  
मुन्कती आदेश 744.22 ⇐
- मुन्कला**  
अत्यल्प 942 16  
निश्चित सख्या 349.3  
मात्र 946 19
- मुन्बारक**  
कल्याणकारी 710 21
- मुन्बारकबाद**  
बघाई 841 22
- मुन्बारकबादी**  
बघाई 841 22
- मुन्बालगा**  
अतिशयोक्ति 434 4
- मुन्बाइ**  
धर्म सम्मत 735 12
- मुन्बाहिसा**  
वाद विवाद 324.3
- मुन्बला**  
ग्रस्त 1013 24  
तत्त्वलीन 331 14  
व्यास्त 502 13
- संलग्न** 1010.18
- मुन्कनि**  
सभ्य 68 13
- मुन्गानिअत**  
निषेध 880 1
- मुन्गानियत**  
अननुमति 338.3
- मुन्गु**  
गोक्ष इच्छुक 257 2  
संन्यासी 790.11
- मुन्गुर्वा**  
मृत्यु इच्छा 249 12
- मुन्गुर्वा**  
मृत्यु इच्छुक 249 28
- मुन्**  
असुर सूची 783 8
- मुन्ई**  
मूली 189.32
- मुन्क**  
मरोड़ 975.11
- मुन्कन**  
तड़कन 544 5  
मरोड़ 975 11  
मोघ 392 12
- मुन्कना**  
भंजित होना 539 7  
मरोड़ना 975 22
- मुन्ककी**  
कान ललरी 134 13
- मुन्कगा**  
नच मुरगी 126 65  
हवाई मुरगा 85 34
- मुन्कगाः कलगी**  
मुरगा कलगी 140 6 ⇐
- मुन्कगाबी**  
मुरगाबी 126 66 ⇐
- मुन्कगाः बोली**  
कुकड़ू कूँ 298 10
- मुन्कगा मुरगी**  
मुरगा मुरगी मास 206 20
- मुन्कगा मुरगी मांस**  
मुरगा मुरगी मांस 206 20 ⇐
- मुन्कगी**  
मुरगी 126 64 ⇐
- मुन्कगी खाना**  
मुरगी खाना 555 5 ⇐
- मुन्कगी टोकरा**  
मुरगी टोकरा 555.6 ⇐
- मुन्कगी पालक**  
मुरगी पालक 555.4 ⇐
- मुन्कगी पालन**  
मुरगी पालन 555.3 ⇐
- मुन्कगीः शिशु**  
मुरगी शिशु 230.10 ⇐
- मुन्कज**  
मूदंग 461 72
- मुन्कजित**  
कृष्ण 771 1

## मुरझन

- मुरझन**  
म्लानन 120 3  
**मुरझाना**  
क्षीणकाय होना 159 7  
म्लान होना 120 7  
**मुरझाया [मुरझाई]**  
म्लान 120 11  
**मुरझायापन**  
म्लानता 120 4  
**मुरझावन**  
म्लानन 120 3  
**मुरदा**  
शव 254 1  
**मुरदा [मुरदी]**  
मृत 249 23  
**मुरदाखोर**  
शव भक्षी 205 8  
**मुरदा घर**  
शवगृह 254 8  
**मुरदा: चीरफाड़**  
शव परीक्षा 251 13  
**मुरदार**  
अप्रयत्नशील 490 9  
मृत 249 23  
शव 254 1  
**मुरदासंग**  
मूर्दासंख्य 92 12  
**मुरब्बा**  
मुरब्बा 201 10 ⇨  
वर्ग आकृति 969 6  
वर्गाकार 969 17  
**मुरब्बी**  
अभिपिता 720 12  
पालक पोषक 720 20  
रक्षक 908 20  
**मुरमुर**  
मरमराहट 297 37  
**मुरमुरा**  
मुरमुरा 200 9 ⇨  
**मुरमुराहट**  
मरमराहट 297 37  
**मुरला**  
नर्मदा 20 16  
**मुरलिया**  
बौंसुरी 461 63  
**मुरली**  
बौंसुरी 461 63  
**मुरलीधर**  
कृष्ण 771 1  
बौंसुरी वादक 461 64  
**मुरली मनोहर**  
कृष्ण 771.1  
**मुरली मोहन**  
कृष्ण 771.1  
**मुरली बाला**  
कृष्ण 771 1  
बौंसुरी वादक 461 64

- मुरशिद**  
धर्म शिक्षक 742 21  
पीर 744 18  
**मुरा**  
मुरा 274 24 ⇨  
**मुराद**  
आशा 375 1  
इच्छा 359 1  
प्रत्याशा 375 5  
प्रयोजन 508 1  
मन्त्रत 361 3  
**मुरादी**  
प्रयोजनार्थी 508 7  
मन्त्रत कर्ता 361 15  
**मुराफा**  
अपील 875 13  
**मुरार**  
कमल मूल 112 14  
**मुरारि**  
विष्णु 768 1  
**मुरारी**  
कृष्ण 771 1  
**मुरीद**  
धर्म दीक्षित 742 25  
प्रशसक 841 31  
शिष्य 323 24  
**मुरीदी**  
शिष्य भाव 323 25  
**मुरेठा**  
पगड़ी 584 13  
**मुरेरा**  
मरोड़ 975 11  
**मुरीवन**  
अनुपेक्षा 184 2  
निष्ठा 826 1  
**मुरीवती**  
अनुपेक्षक 184 9  
निष्ठावान 826 9  
**मुर्की**  
मुर्की 460 11 ⇨  
**मुर्ग**  
नर मुरगी 126 65  
पक्षी 126 1  
**मुर्गा**  
नर मुरगी 126 65  
**मुर्गाबी**  
जलपक्षी सूची 126 7  
**मुर्गी**  
मुरगी 126 64  
**मुर्गीखाना**  
मुर्गीखाना 603.16 ⇨  
**मुर्गीघर**  
मुर्गीखाना 603 16  
**मुर्गी घरबा**  
मुर्गीखाना 603 16  
**मुर्दघाट**  
श्मशान 254 9

- मुर्दनी**  
मृत्यु शोक 253 14  
**मुर्दा**  
शव 254 1  
**मुर्दा गाड़ी**  
शव वाहिका 1070 13  
**मुर्दादिल**  
उत्साहहीन 492 13  
**मुर्दादिली**  
उत्साहहीनता 492 1  
**मुर्दासंख्य**  
मुर्दासंख्य 92 12 ⇨  
**मुर्दासिंधी**  
मुर्दासंख्य 92 12  
**मुर्दा**  
मुरमुरा 200 9  
**मुर्दी**  
ऐठन 392 8  
फेट 586 30  
**मुर्शिद**  
गुरु 323 1  
**मुर्लकट**  
अंगिया कटोरी 585 68  
**मुर्लजिम**  
अभियुक्त 875 4  
**मुर्लतानी**  
मुर्लतानी मिट्टी 100 21  
**मुर्लतानी मिट्टी**  
मुर्लतानी मिट्टी 100.21 ⇨  
**मुर्लम्मा**  
मुर्लम्मा 292 8 ⇨  
**मुर्लम्मा उतरना**  
असभ्य बनना 734 11  
**मुर्लहठी**  
मुर्लेठी 281 27  
**मुर्लाक्रात**  
नव परिधितता 704 8  
परिधितता 704 1  
भेट 436 4  
विशेष भेटवार्ता 445 20  
**मुर्लाक्रात करना**  
भेटवार्ता करना 436 8  
**मुर्लाक्रात कर्ता**  
भेटवार्ता कर्ता 436 13  
**मुर्लाक्राती**  
परिधित 704 19  
भेट इच्छुक 436 12  
भेटवार्ता कर्ता 436 13  
**मुर्लाक्राती कार्ड**  
आत्मपरिचय पत्र 704 5  
**मुर्लाजमत**  
वैतनिकता 643 22  
सेवा 651 1  
**मुर्लाजिम**  
वैतनिक 643 40  
सेवक 651 25  
**मुर्लायम**  
अद्द 159.16

- कचिया 197 27  
कोमल 269 18  
कोमल स्वभावी 837 11  
गहेदार 593 67  
नम्य 1050 32  
मुलायम 197 39 ⇨  
**मुलायमियत**  
कोमलता 269 4  
कोमल स्वभाव 837 2  
गदीलापन 1050 15  
मृणमयता 545 19  
**मुलाहजा**  
अनुपेक्षा 184 2  
अभिमुखता 1023 1  
अवलोकन 284 1  
दृष्टिपात 284 15  
**मुलेठी**  
पान मसाला सूची 213 20  
मुलेठी 281 27 ⇨  
**मुल्क**  
क्षेत्र 34 1  
देश 34 10  
स्वदेश 34 12  
**मुल्कगीर**  
परराष्ट्र जेता 912 18  
**मुल्कगीरी**  
परराष्ट्र जय 912 4  
**मुल्करानी**  
शासन कर्म 890 3  
**मुल्की**  
देशीय 34 17  
स्वदेश वासी 34 21  
स्वदेशीय 34 20  
**मुल्जिम**  
आरोपित 875 25  
**मुल्तवी**  
स्थगित 495 13  
**मुल्तवी करना**  
स्थगित करना 495 7  
**मुल्ला**  
घारा पक्षी 252 7  
धर्म ग्रथज्ञ 738 2  
धर्म शिक्षक 742 21  
मुल्ला 744 23 ⇨  
मौलवी 744 24  
**मुल्ला मौलवी**  
इसलामी धर्माधिकारी 744 14  
**मुल्लावाद**  
पुरोहितवाद 760 19  
**मुयक्किल**  
मुयक्किल 874.24 ⇨  
**मुयाक्कि**  
अनुकूल 885.37  
**मुशरिक**  
गैरमुसलिम 736 3  
**मुशर्रक**  
अलकृत 854 23

**मुराल**  
बलराम मूसल 771 75  
**मुराशायरा**  
कवि सम्मेलन 694 10  
**मुरक**  
कस्तूरी 274 15  
पाश बधन 868 7  
भुजा 149 5  
**मुरक बिलाव**  
गध बिलाव 127 58  
**मुरिकल**  
असमाधान्य 335 12  
कठिन 519 18  
कठिनता 519 1  
दुबोध 519 23  
सकट 909 1  
**मुरिकल मे पड़ना**  
सकट मे पड़ना 309 11  
**मुरिकल से**  
कठिनता 519 31  
**मुरत**  
अत्यल्प 942 16  
मुक्का 150 7  
मुट्ठी 150 8  
**मुरत भर**  
प्रत्यक्ष 942 24  
**मुरतरका**  
साझे का 621 27  
**मुरताक**  
इच्छुक 359 21  
लालसी 359 29  
**मुषक**  
चूहा 127 60  
**मुषल**  
मूसल 560 17  
**मुषली**  
बलराम 771 74  
**मुष्क**  
अडकोश 152 11  
**मुष्कहीन**  
अडाकषित 238 19  
**मुष्टामुष्टि**  
घूँसाघूसी 905 20  
**मुष्टि**  
तलवार मूठ 924 11  
मुक्का 150 7  
मुट्ठी 150 8  
**मुष्टिकांतक**  
धराराम 771 74  
**मुष्टिका**  
मुक्का 150 7  
मुट्ठी 150 8  
**मुष्टि प्रहार**  
मुक्का 918 17  
**मुष्टि बुद्ध**  
बौक्सिंग 486 5  
**मुसका**  
मुख जाली 555 28

**मुसटंडा [मुसटंडी]**  
बलिष्ठ 160 10  
**मुसट्ट**  
चुहिया 127 61  
**मुसना**  
चोरी होना 864 13  
**मुसत्रा**  
काउटरफोइल 415 24  
प्रतिनिधि 414 1  
**मुसम्मात**  
कुलीन स्त्री 728 7  
विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856 6  
स्त्री उपाधि सूची 856 4  
**मुसलमान**  
मुरालिम 736 2  
**मुसलमान साधु**  
इस्लामी साधु 790 23  
**मुसलमान सिद्ध**  
मुसलमान सिद्ध 190 32  
**मुसलमानी**  
इस्लामी 736 29  
खतना 798 26  
**मुसलमानी करना**  
खतना करना 798 38  
**मुसलसल**  
अविरामत 1049 16  
तारतम्यपूर्ण 1049 12  
**मुसलायुध**  
बलराम 771 74  
**मुसलिम**  
इस्लामी 736 29  
मुसलिम 736 2  
**मुसलिम लीगवाद**  
इस्लामवाद 884 24  
**मुसल्ला**  
ईदगाह 745 16  
नमाज़ दरी 593 52  
**मुसखिर**  
चित्रकार 404 25  
**मुसखिरी**  
उत्कीर्णन 406 19  
चित्रकला 404 23  
**मुसा तुसा [मुसी तुसी]**  
तुड़ा मुड़ा [तुड़ी मुड़ी] 975 31  
**मुसातुसापन**  
मुसातुसापन 975 14  
**मुसापन**  
मुसातुसापन 975 14  
**मुसाफिर**  
तीर्थ यात्री 1089 2  
यात्री 1087 2  
**मुसाफिर खाना**  
पाथशाला 1090 25  
प्रतीक्षालय 614 12  
सराय 1090 33  
**मुसाफिरत**  
प्रवासन 618 4

**मुसाहब**  
दरबार सदस्य 889 15  
नर्म सचिव 467 17  
**मुसाहबत**  
घाटुकारिता 841 17  
**मुसाहिब**  
घाटुकार 841 35  
पुरुष मित्र 705 2  
राजा सगी 696 4  
**मुसाहिबत**  
राजा संगति 696 3  
**मुसाहिबी**  
राजा संगति 696 3  
**मुसीबत**  
दुर्भाग्य 260 18  
सकट 909 1  
सकटप्रद वस्तु 909 8  
**मुसीबत का भार**  
दुर्दशाग्रस्त 627 22  
सकटग्रस्त 909 19  
**मुसीबतजदगी**  
दुर्दशा 627 8  
**मुसीबतजदगी**  
दुर्दशाग्रस्त 627 22  
सकटग्रस्त 909 19  
**मुसीबत मोल लेना**  
सकट लेना 909 12  
**मुसीबत से निकालना**  
सकट दूर करना 910 6  
**मुसेगन**  
पशु विच्छा 216 6  
**मुसोलिनीयाद**  
फाशीवाद 884 35  
**मुस्कराता [मुस्कराती]**  
मुस्कराता [मुस्कराती] 384 17  
**मुस्कराना**  
मुस्कराना 384 11  
**मुस्कराहट**  
मुस्कराहट 384 5  
**मुस्काता [मुस्काती]**  
मुस्कराता [मुस्कराती] 384 17  
**मुस्कान**  
मुस्कराहट 384 5  
**मुस्काना**  
मुस्कराना 384 11  
**मुस्कानि**  
मुस्कराहट 384 5  
**मुस्कयान**  
मुस्कराहट 384 5  
**मुस्ताक़बिल**  
अधिष्णु 67 8  
अधिष्णु काल 36 14  
**मुस्ताक़िल**  
दीर्घ कालीन 37 10  
**मुस्ताक़ा**  
उत्तम 313 13  
मुहम्मद 791 20

**मुस्ताक़**  
अधिकार भागी 897 16  
**मुस्ता**  
नागर मोथा 281 22  
**मुस्तीव**  
दीर्घशील 394 15  
व्यस्त 502 13  
सन्नद्ध 491 16  
स्फूर्त 491 13  
**मुस्तीवी**  
सन्नद्धता 491 4  
स्फूर्ति 491 2  
**मुस्ताक़ी**  
वेतन वितरक 643 25  
**मुस्लिम**  
मुसलिम 736 2  
**मुहतरम**  
सम्मान्य 854 20  
**मुहतरम [मुहतरमा]**  
आदरणीय 854 18  
**मुहतरमा**  
कुलीन स्त्री 728 7  
**मुहताज़**  
अभावग्रस्त 627 17  
**मुहताज़**  
आवश्यकता ग्रस्त 524 21  
कगाल 627 21  
**मुहताज़ खाना**  
आहार वितरण केंद्र 183 31  
**मुहब्बत**  
प्रेम 368 1  
**मुहब्बती**  
प्रेम प्रवण 368 22  
**मुहम्मद**  
पैगंबर सूची 791 2  
मुहम्मद 791 20  
**मुहम्मद उपरंत तीन खलीफ़ा: विरोध**  
शीया मत 736 8  
**मुहम्मद उपरंत तीन खलीफ़ा: समर्थन**  
सुन्नी मत 736 10  
**मुहम्मद: चाचा**  
उसमान 791 13  
**मुहम्मद: जन्म कथा**  
मीलद शरीफ़ 739 7  
**मुहम्मद: जन्म दिवस**  
बारह वफ़ात 57 50  
**मुहम्मद: धर्म**  
इस्लाम धर्म 736 1  
**मुहम्मद: धेवला**  
हसन 791 27  
हुसैन 791 28  
**मुहम्मद: निधन दिवस**  
बारह वफ़ात 57 50  
**मुहम्मद परिवार: पवित्र व्यक्ति**  
पजतन 791 16  
**मुहम्मद: पुत्री**  
मुहम्मद: पुत्री 791 22

## मुहम्मद: प्रतिनिधि

**मुहम्मद: प्रतिनिधि**  
खलीफा 744.17  
**मुहम्मद: प्रथम पत्नी**  
खदीजा 791.14  
**मुहम्मद: प्रथम पत्नी** 791.21 ⇨  
**मुहम्मद विषयक**  
मुहम्मद विषयक 791.32 ⇨  
**मुहम्मदी**  
इसलामी 736 29  
मुसलिम 736 2  
मुहम्मद विषयक 791 32  
**मुहर**  
मुद्राक 414 17  
मुद्रा 414.15  
रबड़. मुहर 414.19  
स्वर्ण सिक्का 629 4  
**मुहरकन**  
मुहर निर्माता 414.26  
**मुहर छापना**  
मुद्रांकन करना 414 23  
**मुहर निर्माता**  
मुहर निर्माता 414.26 ⇨  
**मुहरबंद**  
मुहरबंद 414.25 ⇨  
**मुहरबंदी**  
मुहरबंदी 414 18 ⇨  
**मुहर लगा**  
मुद्रांकित 414 24  
**मुहर लगाना**  
अनुसमर्थन करना 337 14  
मुद्रांकन करना 414.23  
**मुहरा**  
गोटी 479.1  
**मुहराबाजी**  
नज़रबंदी 474 17  
**मुहरा लेना**  
प्रतिरोध करना 915 4  
**मुहरम**  
धर्म निषिद्ध (आहार) 198.12  
मुहरम 57.51 ⇨  
मुहरम: जुलूस 1088 13  
रोज़े 748.6  
हिजरी मास सूची 43.5  
**मुहरम 1**  
नव वर्ष सूची 42.19  
**मुहरम: 9वीं रात**  
शबे शहादत 57 53  
**मुहरम: जुलूस**  
मुहरम: जुलूस 1088.13 ⇨  
**मुहरमी**  
मृत्यु शोकग्रस्त 253.39  
शोकपूर्ण 383 7  
**मुहरिंर**  
कलक 652.36  
दस्तावेज़ लेखक 412 24  
लिपिक 412.4  
**मुहरिंरी**  
कलकी 652 35

**मुहस्सिल**  
तहसीलदार 866.7  
**मुहाजिर**  
विस्थापित जन 1036.5  
शरणगत 910 12  
**मुहाना**  
अंतर्व्यास 972 13  
डेल्टा 21 24  
नुक्कड़ 1064 8  
**मुहाफिज़**  
रक्षक 908 20  
सकट भोचक 910 10  
सरक्षक 908.26  
**मुहार**  
नकेल 555.18  
**मुहाल**  
असभव 68 14  
कठिन 519 18  
दुर्लभ 942 19  
**मुहाल मक्खी**  
मधुमक्खी 122.39  
**मुहावरा**  
मुहावरा 424 15 ⇨  
**मुहासिब**  
लेखा परीक्षक 632 34  
**मुहासिर**  
घेरा डालने वाला 914 24  
**मुहिबे वतन**  
राष्ट्रनिष्ठ 826 12  
**मुहिम**  
अभियान 907 24  
आक्रमण 914 3  
कठिन कार्य 519 2  
युद्ध 905 4  
**मुह:**  
पुनः 73 5  
**मुहुमुह**  
पुनः 73 5  
**मुहरत**  
मंगल काल 796 3  
मुहूर्त 49.10  
**मुहूर्त**  
अवसर 70.1  
इष्ट योग 261 29  
मंगल काल 796.3  
मुहूर्त 49.10 ⇨  
**मुहूर्त: 5**  
घटी 50.12  
**मुहैया करना**  
मौज पूर्ति करना 656.14  
**मुंग**  
दलहन सूची 188.7  
मुंग 188.14 ⇨  
**मुंगकली**  
तिहलन सूची 196.14  
मुंगकली 191 12 ⇨  
मेवा सूची 191 2

**मुंग: बड़ी**  
मुंग: बड़ी 192.16 ⇨  
**मुंगा**  
नयरत्न सूची 96.7  
प्रवाल 97 4  
मुंगा 97.1 ⇨  
रत्न सूची 96 5  
**मुंगा कृमि**  
प्रवाल 97 4  
**मुंगा द्वीप**  
प्रवाल द्वीप 97 5  
**मुँछ**  
दृढ प्रतिज्ञा 339 18  
प्रतिष्ठा 849 2  
मुँछ 136 5 ⇨  
**मुँछ: आरंभिक रूप**  
मुँछ: आरंभिक रूप 136.6 ⇨  
**मुँछ दाढ़ी**  
दाढ़ी मुँछ 136 1  
**मुँछ निकलना**  
मुँछ निकलना 136 7 ⇨  
**मुँछ वाला**  
मुच्छेल 136 10  
**मुँछहीन**  
मुँछहीन 136 11 ⇨  
**मुँज**  
मुँज 568 1 ⇨  
मुँज डोरी 570 2  
**मुँज डोरी**  
मुँज डोरी 570 2 ⇨  
**मुँक**  
नरमुड 140 2  
सिर 140 1  
**मुँकन**  
मुडन सस्कार 798 18  
**मुँकना**  
केश मुँकना 224 12  
ठगना 864 49  
**मुक**  
अतरामिमुखी 838 14  
मुंगा [मुँगी] 164 5  
ध्वनिहीन 295 4  
मीन 429 22  
वाचाहीन 429.25  
**मुक अभिनय**  
मुक अभिनय 464 11 ⇨  
**मुक अभिनेता**  
मुक अभिनेता 464.12 ⇨  
**मुकता**  
मुंगापन 164 1  
मीन भाव 429 3  
**मुक फ़िल्म**  
अवाक फ़िल्म 472.2  
**मुक बधिर**  
मुंगा बहारा [मुँगी बहरी] 164 6  
**मुक रहना**  
मीन रहना 429.13

**मुकिमा**  
मुंगापन 164.1  
मीन भाव 429.3  
**मुछिया**  
मुच्छेल 136.10  
**मुज़ी**  
उत्पीड़क 391 29  
कृपण 639 26  
**मूठ**  
आधार सूची 596 2  
चक्का हत्था 596 25  
तलवार मूठ 924 11  
बरतन हत्था 680 29  
मुट्ठी 150 8  
मूठ 596 24 ⇨  
**मूठदार डंडा**  
मूठदार डंडा 923 6 ⇨  
**मूठ मारना**  
अभिमत्रण करना 758 33  
टोना करना 759 16  
**मूठा**  
जूना 218 14  
**मूठी**  
मुट्ठी 150 8  
**मूड़**  
नरमुड 140 2  
**मूड़**  
भमित 342 10  
मुख्य 302 7  
वज़्रधी 302 9  
**मूड़ प्राही**  
दुराग्रही 349 12  
**मूड़ता**  
अयिवेक 302 4  
मुख्यता 302 1  
**मूड़धी**  
वज़्रधी 302 9  
**मूड़मति**  
वज़्रधी 302 9  
**मूड़ा**  
मूड़ा 595.22 ⇨  
**मूठ**  
मूठ 216 15  
**मूली**  
मूठ 216 15  
मूठालय 216 22  
**मूत्र**  
देह मल सूची 215.2  
मूत्र 216.15 ⇨  
**मूत्र पुरीष**  
मल मूत्र 216 1  
**मूत्र शकृत**  
मल मूत्र 216.1  
**मूत्राधिक्य**  
मूत्राधिक्य 163.32 ⇨  
**मूत्रालय**  
मूत्रालय 216.22 ⇨

मूत्राराय  
मूत्राराय 152.6 ⇨  
मूर्धेन्द्रिय  
पुरुष जननेन्द्रिय 152.10  
मूर्धेन्द्रिय  
मूर्धेन्द्रिय 152.8 ⇨  
मून बेस (अँ)  
घंद्र स्थल 1069.24  
मूनस्टोन (अँ)  
घंद्रकात मणि 96.17  
मूमफली  
मूंगाफली 191.12  
मूरख  
मूरख 302.7  
मूरछना  
मूर्च्छित होना 264.17  
मूरत  
देव मूर्ति 746.1  
मुख मंडल 140.11  
मूर्ति 406.1  
शरीर 139.1  
मूरिंग (अँ)  
नौका बंधन स्थान 1073.19  
मूरि  
जडी 176.3  
मूल 112.10  
मूरिस  
उत्तराधिकार दाता 623.13  
मृत पूर्वज 727.22  
मूरख  
छलित 827.23  
मूरख 302.7 ⇨  
व्यवहार अकुशल 829.9  
सहज विश्वासी 340.16  
मूरख (दे.)  
अशिक्षित 321.42  
मूरखता  
मूरखता 302.1 ⇨  
व्यवहार अकुशलता 829.2  
सहज विश्वासशीलता 340.4  
मूरख बनाना  
मूरख बनाना 302.6 ⇨  
मूरख व्यक्ति  
मूरख व्यक्ति 302.2 ⇨  
मूरख होना  
मूरख होना 302.5 ⇨  
मूरछा  
मूरछा 264.5 ⇨  
मूरछा आना  
मूर्च्छित होना 264.17  
मूर्च्छित  
मूर्च्छित 264.23 ⇨  
मूर्च्छित होना  
मूर्च्छित होना 264.17 ⇨  
मूरछना  
समाधिस्थता 755.4  
मूरछा  
मूरछा 264.5

मूरछा (दे.)  
मद 211.1  
मूर्छित (दे.)  
मदोन्मत्त 211.15  
मूर्त  
वास्तविक 820.23  
साकार 967.12  
साकार ईश्वर 764.10  
मूर्ततः  
शरीरतः 139.16  
मूर्तता  
साकारता 967.1  
मूर्ति  
देव मूर्ति 746.1  
प्रतिरूप 967.9  
मूर्ति 406.1 ⇨  
शरीर 139.1  
मूर्तिः आधार  
मूर्ति आधार 406.2 ⇨  
मूर्तिः आधार शिला  
मूर्ति आधार शिला 406.3 ⇨  
मूर्तिकक्ष  
गर्भगृह 745.44  
मूर्ति कर्म  
मूर्ति कर्म 406.17 ⇨  
मूर्ति कला  
कला सूची 397.12  
मूर्ति कला 406.16 ⇨  
मूर्तिकार  
ईश्वर 764.1  
मूर्तिकार 406.18 ⇨  
मूर्ति दर्शन  
देव दर्शन 749.37  
मूर्ति निर्माण  
मूर्ति निर्माण 598.8 ⇨  
मूर्ति पूजक  
मूर्ति पूजक 751.8 ⇨  
मूर्ति पूजा  
मूर्ति पूजा 751.7 ⇨  
मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा  
मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 598.9 ⇨  
मूर्ति भजक  
मूर्ति भजक 539.20 ⇨  
मूर्ति भजन  
मूर्ति भजन 539.6 ⇨  
मूर्तिमान  
साकार 967.12  
मूर्ति विच्छेदक  
मूर्ति भजक 539.20  
मूर्ति विच्छेदन  
मूर्ति भजन 539.6  
मूर्ति विधान  
मूर्ति कला 406.16  
मूर्ति शिल्प  
मूर्ति कला 406.16  
मूर्तिहीन  
निराकार 967.13  
निराकार ईश्वर 764.8

मूर्धज  
केरा 137.1  
मूर्धन्य  
उत्तम 313.13  
महान 839.8  
लोकमान्य 849.21  
मूर्धा  
उच्चारण स्थान सूची 411.10  
कपाल 133.6  
मस्तक 140.12  
मूर्धा 143.11 ⇨  
सिर 140.1  
मूर्धाभिषेक  
राज्याभिषेक 899.15  
मूल  
आदिम 63.7  
आधार 596.1  
आरभ 994.3  
आरंभिक 994.16  
उत्स्रोत 21.1  
कद 111.10  
जडी 176.3  
तर्काधार 325.7  
निम्न बिंदु 983.4  
निम्न भाग 983.3  
पहला [पहली] 948.85  
पहिया नामि 1077.4  
मूल 112.10 ⇨  
मूलधन 633.9  
मूल पाठ 412.32  
मूल लिपि 412.28  
मौलिक 397.36  
शब्द व्युत्पत्ति 423.2  
मूल अर्क  
टिक्क 176.17  
मूल आवासी  
मूल आवासी 618.27 ⇨  
मूल एकक  
अमीनो अम्ल 179.6  
मूलक  
आधारभूत 1019.14  
रेडिकल 78.22  
मूल कथा  
मुख्य कथा 466.10  
मूल कृति  
मूल कृति 397.25 ⇨  
मौलिक कृति 397.24  
मूलगत  
आधारभूत 1019.14  
मूल ग्रंथ  
मूल लिपि 412.28  
मूलतः  
आरंभतः 994.21  
मूल तत्त्व  
तत्त्व 78.6  
मूल तथ्य 820.16  
सार 84.16

मूल तत्त्व तंत्रान  
विरलेषण 427.19  
मूल तथ्य  
मूल तथ्य 820.16 ⇨  
मूलता  
मौलिकता 397.23  
मूलदेव  
कंस 771.46  
मूल ब्रह्म  
धातु 93.1  
मूलधन  
मूलधन 633.9 ⇨  
मूल धातु  
मज्जा 132.3  
मूल निवास  
मूल निवास 618.3 ⇨  
मूल निवास स्थल  
मूल स्थान 618.12  
मूल निवासी  
मूल आवासी 618.27  
मूल पाठ  
मूल पाठ 412.32 ⇨  
मूल पाठ भेद  
मूल पाठ भेद 412.33 ⇨  
मूल पुरुष  
वंश प्रवर्तक 727.7  
मूल प्रकृति  
मूल प्रकृति 762.2 ⇨  
मूल प्रति  
पांडुलिपि 412.29  
मूल बनना  
मूल बनना 117.13 ⇨  
मूलभूत  
आधारभूत 1019.14  
मूल मंत्र  
गुर 517.4  
मूल में होना  
कारणभूत होना 507.4  
मूल रचना  
मूल कृति 397.25  
मूल राग  
धाट 458.19  
मूल रूप  
अपरिवर्तित रूप 533.3  
मूल लिपि  
मूल लिपि 412.28 ⇨  
मूल विट  
पूँजी 628.9  
मूल विषय  
पूर्व पक्ष 324.11  
मूल व्यय  
लागत 644.7  
मूल इत्ती  
कंदाहारी 204.13  
मूल शब्द  
अकृत शब्द 423.11  
मूल सिद्धांतवादी  
आदि सिद्धांतवादी 343.20

## मूल सूत्र

**मूल सूत्र**  
आरंभिक ज्ञान 994 5  
**मूल स्थान**  
मूल निवास 618 3  
मूल स्थान 618 12 ⇌  
**मूलहीनता**  
निराधारता 1019 4  
**मूलहीन वनस्पति**  
परजीवी वनस्पति 111 8  
**मूला**  
नक्षत्र सूची 4 6  
**मूलाधार चक्र**  
षड्चक्र सूची 757 8  
**मूलिक**  
कंदाहारी 204 13  
तपस्वी 789 14  
**मूलिका**  
मूल 112 10  
मूली 189 32  
**मूली**  
जड़ी 176 3  
मूली 189 32 ⇌  
वृक्ष 111 18  
साग सक्की सूची 189 4  
**मूलोच्छेदक**  
विस्थापक 1036 14  
**मूलोच्छेदित**  
उन्मूलित 548 57  
**मूलोद्भव**  
आमूलन 117 5  
**मूल्य**  
उपयोगिता 524 6  
क्रय 660 18  
पारिश्रमिक 643.8  
महत्त्व 852 1  
मूल्य 664 ' ⇌  
**मूल्य अभाव**  
निरशुल्कता 665 3  
**मूल्य कटीती**  
रिआयत 664 16  
**मूल्य कथन**  
मूल्य निवेदन 664 6  
**मूल्य कम करना**  
कटीती करना 664 27  
**मूल्य कम होना**  
मूल्य कम होना 664 25 ⇌  
**मूल्य क्षयण**  
मूल्य क्षयण 664 15 ⇌  
**मूल्य गिरना**  
मदी होना 664 23  
**मूल्य देना**  
मूल्य देना 664.22 ⇌  
**मूल्य निर्यत्रक**  
मूल्य निर्यत्रक 664.37 ⇌  
**मूल्य निर्यत्रण**  
मूल्य निर्यत्रण 664.18 ⇌  
**मूल्य निर्धारण**  
मूल्य निर्धारण 664.5 ⇌

1432

सौदेबाजी 658.6  
**मूल्य निर्धारित होना**  
मूल्य निर्धारित होना 664 20 ⇌  
**मूल्य निवेदन**  
मूल्य निवेदन 664 6 ⇌  
**मूल्य निवेदन करना**  
मूल्य निवेदन करना 664.21 ⇌  
**मूल्य प्रवत्त**  
मूल्य प्रवत्त 664 29 ⇌  
**मूल्य प्रदान**  
मूल्य प्रदान 664 9 ⇌  
**मूल्य प्रस्ताव**  
मूल्य निवेदन 664 6  
**मूल्य बताना**  
मूल्य निवेदन करना 664 21  
**मूल्य लगाना**  
मूल्यांकन करना 664 19  
**मूल्यवान [मूल्यवती]**  
बहुमूल्य 664 31  
**मूल्य वृद्धि**  
व्यापारिक महंगाई 664 14  
**मूल्य वृद्धि जनित आय**  
अनर्जित आय 643 5  
**मूल्य सूची**  
मूल्य सूची 993 7 ⇌  
**मूल्यहीन**  
अनुपयोगी 525.8  
अल्पमूल्य 664 32  
निरशुल्क 665 8  
महत्त्वहीन 853 8  
मूल्यातीत 664 30  
**मूल्यहीनता:**  
निरशुल्कता 665 9  
**मूल्यहीनता**  
निरशुल्कता 665 3  
मूल्यातीतता 664 10  
**मूल्यांकन**  
मूल्यांकन 664.4 ⇌  
**मूल्यांकन करना**  
मूल्यांकन करना 664 19 ⇌  
**मूल्यांकन कर्ता**  
मूल्यांकन कर्ता 664 28 ⇌  
**मूल्यातीत**  
मूल्यातीत 664 30 ⇌  
**मूल्यातीतता**  
मूल्यातीतता 664 10 ⇌  
**मूव (अँ)**  
तारा चाल 478 20  
**मूवी (अँ)**  
फिल्म 472 1  
**मूवी कैमरा (अँ)**  
फिल्म कैमरा 405 17  
**मूवी फिल्म (अँ)**  
फिल्म 472 1  
**मूवी फिल्म रील (अँ)**  
रील 405.24  
**मूरोह (हिब्रू)**  
मूसा .791.23

**मूष**  
चूहा 127 60  
**मूषक**  
चूहा 127 60  
**मूषक वाहन**  
गणेश 773 22  
**मूषा**  
गँजिया 684 8  
चुहिया 127 61  
**मूषिका**  
गँजिया 684 8  
चुहिया 127 61  
**मूषिकाद**  
नर बिल्ली 127 57  
**मूषी**  
सगलन पात्र सूची 565 17  
**मूषीकरण**  
घातु सगलन 565 11  
सोना चोदी सगलन 565.13  
**मूस**  
चूहा 127 60  
**मूसना**  
चोरी करना 864 44  
**मूसरघंद**  
चूहा 127 60  
**मूसल**  
मूसल 560.17 ⇌  
मूसला 609 22  
**मूसलधार**  
अनवरत (वर्षा) 54 24  
**मूसला**  
मूसला 609 22 ⇌  
**मूसलाधार**  
अनवरत (वर्षा) 54 24  
**मूसलाधार वर्षा**  
तीव्र वर्षा 54 11  
**मूसा**  
पैगंबर सूची 791 2  
मूसा 791 23 ⇌  
**मूसा: जल्बए तूर**  
मूसा जल्बए तूर 791 24 ⇌  
**मूसीक्रार**  
सगीत निर्देशक 460 3  
**मृग**  
आखेटित पशु 252 4  
पशु 127.1  
पुरुष भेद सूची 236.16  
वन्य पशु 127 2  
हिरन 127 42  
**मृग अजिन**  
मृग अजिन 582.13 ⇌  
**मृग कानन**  
आखेट स्थल 252.22  
**मृग चर्म**  
मृग अजिन 582.13  
**मृग छाला**  
मृग अजिन 582.13  
**मृगछाला आदि सूची** 595.5

**मृगछाला आदि**  
चर्म आसन 595 4  
**मृगछाला आदि सूची**  
मृगछाला आदि सूची 595 5 ⇌  
**मृग जल**  
मृग दर्शन 342 6  
**मृग जल स्नान**  
असभव घटना उपमान सूची 75 17  
**मृगजीवी**  
आखेटक 252 2  
**मृगणा**  
खोज 336 4  
पीछा 1096 3  
**मृग तृष्णा**  
मिथ्या आशा 375 4  
मृग दर्शन 342 6  
**मृग दर्शन**  
मृग दर्शन 342 6 ⇌  
**मृग दाव**  
आखेट स्थल 252 22  
**मृगधर**  
चंद्रमा 8 2  
**मृग धूर्त**  
गीदड़ 127 75  
**मृगनयन**  
मृगनयन 158 20 ⇌  
**मृगनयना**  
मृगनयना 158 21 ⇌  
**मृगनयनी**  
मृगनयना 158 21  
**मृगनाभि**  
करतूरी हिरन 127 45  
**मृगनाभिजा**  
कस्तूरी 274 15  
**मृग पाश**  
पशु पाश 1013 12  
**मृग मरीचिका**  
मृग दर्शन 342 6  
**मृग मास**  
मार्गशीर्ष 43 15  
**मृगया**  
आखेट 252.1  
पशु आखेट 252 12  
**मृगया क्षेत्र**  
आखेट स्थल 252.22  
**मृगया मांस**  
आखेट मास 206.14  
**मृगया यान**  
आखेट यात्रा 252.21  
**मृगराज**  
बाघ 127 55  
सिंह 127 50  
**मृग लेखा**  
चंद्रमा कलंक 8.8  
**मृगलोचन**  
मृगनयन 158.20  
**मृगलोचना**  
मृगनयना 158.21



मृगलोचनी  
मृगनयना 158 21  
मृग वन  
चिड़िया घर 603 10  
मृगशिरा  
नाक्षत्र सूची 4 6  
मृगहा  
आखेटक 252 2  
मृगांक  
कपूर 274 14  
चंद्रमा 8 2  
चंद्रमा कलक 8 8  
मृगांडजा  
कस्तूरी 274 15  
मृगांबर  
मृग अजिन 582 13  
मृगाजिन  
मृग अजिन 582 13  
मृगछाता आदि सूची 595 5  
मृगारि  
बाघ 127 55  
सिंह 127 50  
मृगित  
पीछा कृत 1096 11  
प्रतिलब्ध 863 8  
मृगी  
मादा हिरन 127 43  
मिरगी 264 7  
मृगै  
सिंह 127 50  
मृच्छकटिक  
मिट्टी की गाड़ी 480 5  
मृज  
मृदग 461 72  
मृडानी  
दुर्गा 776 7  
पार्वती 776 9  
मृडीक  
शिव 767 1  
हिरन 127 42  
मृपाल  
कमल मूज 112 14  
मृपालिका  
कमल ककड़ी 189 11  
मृपालिनी  
कमल सरोवर 18 3  
कमलिनी 14 8  
मृण्मय  
मटियाला [मटियाली] 100 26  
मृण्मय 545 34  
मृण्मयता  
मृण्मयता 545 19  
मृत  
दग्ध (घातु) 108.17  
नष्ट 531 7  
मृत 249 23  
मृत (दे.)  
अजीवित 247 8

मृतक  
मृत 249 23  
मृतक आदि संस्कार  
अमगल कार्य 797 1  
मृतक गुणगान  
मृतक गुणगान 253 18  
मृतक: जीवन दाता  
पुनरुज्जीवक 250 22  
मृतक: जीवन प्राप्ति  
मृतक पुनरुज्जीवन 250 9  
मृतक: पुनरुज्जीवन  
मृतक पुनरुज्जीवन 250 9  
मृतक शांति: नमाज  
नमाजे जनाजा 253 13  
मृतक. संजीवन  
मृतक सजीवन 250 5  
मृतक संस्कार  
मृतक संस्कार 253 1  
मृतक संस्कार करना  
मृतक संस्कार करना 253 29  
मृतक स्नान  
मृतक स्नान 253 3  
मृतकालक  
गीदड़ 127 75  
मृत घेल  
कफन 254 5  
मृत पूर्वज  
पितृ 253 26  
मृत पूर्वज 727 22  
मृतप्राय  
मृतप्राय 249 29  
मृतप्राय होना  
मृतप्राय होना 249 22  
मृत मास भक्षी  
शव भक्षी 205 8  
मृतमातृक  
माताहीन 719 7  
मृत लेख  
मृत्यु पत्र 623 17  
मृत व्यक्ति उपाधि सूची  
मृत व्यक्ति उपाधि सूची 856 7  
मृत शरीर  
शव 254 1  
मृत संजीवन  
मृतक सजीवन 250 5  
मृत संजीवनी  
सजीवनी औषध 250 7  
सजीवनी विद्या 250 6  
मृत होना  
मरना 249 18  
मृतात्मा  
भूत 786 1  
मृतात्मान  
मृतक पुनरुज्जीवन 250 9  
मृतास्थित  
पुनरुज्जीवित 250 21  
मृत्कांस्य  
मिट्टी बरतन 680 8

मृत्तिका  
मिट्टी 100 8  
मृत्तिका बंध  
मृत्तिका बंध 22 4  
मृत्तिकाभय  
मटियाला [मटियाली] 100 26  
मृत्तिका मूर्ति  
मृत्तिका मूर्ति 406 10  
मृत्तिकाभय  
माटीय 100 25  
मृत्पात्र  
मिट्टी बरतन 680 8  
मृत्युंजय  
अनश्वर 37 9  
मृत्यु विजेता 250 17  
शिव 167 1  
मृत्युंजयता  
अनश्वरता 37 3  
मृत्युंजय मंत्र  
सजीवनी मंत्र 250 8  
मृत्यु  
नाश 531 1  
मृत्यु 249 1  
मृत्यु 774 73  
यजित दृश्य सूची 463 28  
मृत्यु (दे.)  
मृत्यु 774 73  
मृत्यु अशौच  
मरण अशौच 198 9  
मृत्यु आना  
मरना 249 18  
मृत्यु इच्छा  
मृत्यु इच्छा 249 12  
मृत्यु इच्छुक  
मृत्यु इच्छुक 249 28  
मृत्युकर  
मृत्युकारी 249 24  
मृत्युकांक्षी  
मृत्यु इच्छुक 249 28  
मृत्युकारी  
मृत्युकारी 249 24  
मृत्यु काल  
मृत्यु काल 249 10  
मृत्यु की प्रतीक्षा करना  
जर्जर वृद्ध होना 232 8  
मृत्युगत  
मृत 249 23  
मृत्यु गीत  
मृत्यु गीत 797 9  
मृत्यु दंड  
मृत्यु दंड 871 1  
मृत्यु दंडकर्मी  
जल्लाद 871 17  
मृत्यु दंड देना  
मृत्यु दंड देना 971 18  
मृत्यु दंड स्थल  
मृत्यु दंड स्थल 871 9

मृत्यु दंडादेश  
मृत्यु दंडादेश 871.2  
मृत्यु दिवस  
पुण्य दिवस 58.3  
मृत्यु देवता  
यमराज 256 1  
मृत्यु: देवी  
निर्ऋति 774 51  
मृत्यु पत्र  
मृत्यु पत्र 623 17  
मृत्युपाश  
यमपाश 256 2  
मृत्यु पुनर्जन्म के बीच स्थित आत्मा  
मृत्यु पुनर्जन्म के बीच स्थित आत्मा 763.3  
मृत्यु भोज  
मृत्यु भोज 183.10  
मृत्यु भोज सूची  
मृत्यु भोज सूची 183 11  
मृत्यु मीमांसा  
मृत्यु मीमांसा 251 12  
मृत्यु: रात  
कालरात्रि 48 9  
मृत्यु लेख  
कृत लेख 254 20  
मृत्यु पत्र 623 17  
मृत्यु लोक  
इहलोक 258 11  
मृत्यु विजेता  
मृत्यु विजेता 250 17  
मृत्यु विलाप  
मृत्यु विलाप 253 15  
मृत्यु शय्या  
मृत्यु शय्या 249 11  
मृत्युशील  
नश्वर 38.7  
मृत्यु शोक  
मृत्यु शोक 253.14  
मृत्यु शोक करना  
मृत्यु शोक करना 253.35  
मृत्यु शोक कर्ता  
मृत्यु शोक कर्ता 253 40  
मृत्यु शोकगृह  
मृत्यु शोकगृह 253 16  
मृत्यु शोकग्रस्त  
मृत्यु शोकग्रस्त 253 39  
मृत्यु संवेदना  
मृत्यु संवेदना 253 17  
मृत्यु सूचना  
मृत्यु सूचना 253 19  
मृत्यु सूचना पत्र  
मृत्यु सूचना पत्र 253.20  
मृत्युहीन  
अनश्वर 37 9  
मृत्युहीनता  
अनश्वरता 37 3  
अमृत्यु 250 1  
मृत्यु होना  
मरना 249 18

## मृत्यूपरांत लोक

**मृत्यूपरांत लोक**  
परलोक 258.12

**मृत्ना**  
करेल 552.4  
मिट्टी 100.8

**मृत्ना**  
करेल 552.4  
मिट्टी 100.8

**मृदंग**  
मंगल वाद्य सूची 796 12  
मृदंग 461.72 ⇌

**मृदंग ध्वनि**  
ढमढम 296 11

**मृदंगम**  
मृदंग 461 72

**मृदंग वादक**  
मृदंग वादक 461 73 ⇌

**मृदंगिया**  
मृदंग वादक 461 73

**मृदंगी**  
मृदंग वादक 461.73

**मृदन**  
रींदाई 541.4

**मृदा**  
मिट्टी 100 8

**मृदा पंक**  
मिट्टी गारा 100 9

**मृदु**  
कोमल 289.18  
कोमल स्वभावी 837 11  
कोमलहृदय 834.15  
मृण्मय 545 34  
शिय 767 1

**मृदुगामी [मृदुगामिनी]**  
मंदगामी [मंदगामिनी] 1045.11

**मृदु जल**  
मृदु जल 88.3 ⇌

**मृदुता**  
अप्रबलता 488.3  
कोमलता 269.4  
कोमल स्वभाव 837 2  
दयालुता 834.4  
मृण्मयता 545 19  
सुरीलापन 459 34  
सीमनस्य 705 18

**मृदु तापु**  
काकल 145.10

**मृदुपक्षा**  
सामन 125 13

**मृदुफल**  
नारियल 13.11

**मृदु भाषण**  
मिष्ट भाषण 431.3

**मृदुभाषिणी**  
मिष्टभाषिणी 431 9

**मृदुभाषी**  
मिष्टभाषी 431.8

**मृदु मंद**  
मंदगामी [मंदगामिनी] 1045 11  
मंद स्वरीय 299.23

**मृदुरोमा**  
खरगोश 127 83

**मृदुल**  
अप्रबल 488 14  
कोमल 269 18  
कोमल स्वभावी 837 11  
कोमलहृदय 834.15  
मंद स्वरीय 299.23  
मधुर स्वरीय 299 25  
मृण्मय 545 34

**मृदुलता**  
कोमलता 269 4  
कोमल स्वभाव 837 2  
दयालुता 834 4  
मृण्मयता 545 19  
रूप माधुर्य 157 4  
सुरीलापन 459 34  
सीमनस्य 705 18

**मृदुल स्वभावी**  
कोमल स्वभावी 837 11

**मृदु स्वभाव**  
कोमल स्वभाव 837 2

**मृदु स्वभावी**  
कोमल स्वभावी 837 11

**मृदिपड**  
मिट्टी ढेला 938 42

**मृद्भांड**  
मिट्टी बरतन 680 8

**मृद्भांडांश**  
मृद्भांडांश 77.6 ⇌

**मृषा**  
असत्यत 821 23  
असफलत 513 5

**मृषार्थक**  
असंभव घटना 75 7

**मृषा: वाद**  
असत्य कथन 821 5

**मृष्ट**  
विचारित 330 19  
विमर्शित 330 28  
स्पर्शित 269.14

**मैं**  
अंदर 999 17

**मैंगनी**  
परु विष्ठा 216.6

**मैटिनेस (अँ)**  
रखरखाय 538 4

**मैक**  
उच्च मार्ग 1065.3  
मैक 551 22 ⇌

**मैकबंदी**  
क्षेत्राकन 100.1 14

**मैकड़ा**  
कुडली 973 8  
घेरा 804 7

चक्र 1077.31  
बाहरी घेरा 972 7

**मैकरी**  
चक्की: मैक 560.16

**मैकक**  
मैकक 124.2 ⇌

**मैकक: प्रारंभिक रूप**  
मैकक: प्रारंभिक रूप 124.3 ⇌

**मैकक: बोली**  
टरटर 298 21

**मैकक: शिशु**  
मैकक शिशु 230 8 ⇌

**मैधी**  
मैहेंदी 225 33

**मैमें**  
मिमियाहट 298 25

**मैह**  
वर्षा 54 5

**मैहदी**  
मैहेंदी 225 33  
मैहेंदी लगाई 800 37

**मैकअप**  
आहार्य अभिनय 464 36

**मैकअप (अँ)**  
नाट्य मैकअप 464 39  
मैकअप कर्म 225 7

**मैकअप कर्म**  
मैकअप कर्म 225 7 ⇌

**मैकअप कर्मी**  
मैकअप कर्मी 225.8 ⇌

**मैकअप मैन**  
मैकअप मैन 464 40 ⇌

**मैकअप मैन (अँ)**  
मैकअप मैन 464 40

**मैकअप रूप (अँ)**  
ग्रीनरूम 464 41  
प्रसाधन कक्ष 614 13

**मैकअप सामग्री**  
मैकअप सामग्री 225.9 ⇌

**मैख**  
कील 1016 8

**मैख**  
खूँटा 555 11

**मैखला**  
कठहार 228 26  
कमरबंद 571 8  
करधनी 228 7  
तारतम्य 1049.3  
नर्मदा 20 16  
पर्वत श्रेणी 16 9  
माल 1076 28  
शुंखला 569.26

**मैखलाद्रिजा**  
नर्मदा 20 16

**मैखलायन**  
घेराबंदी 914 11

**मैखली**  
शिय 767 1

**मेघ**  
मेघ 55.1 ⇌  
राग रागिनी सूची 457 24  
षड्भाग सूची 457 22

**मेघ काल**  
वर्षा काल 54 1

**मेघ: गडगडाहट**  
मेघ गडगडाहट 297.11 ⇌

**मेघ गर्जन**  
मेघ गडगडाहट 297 11

**मेघ जाल**  
मेघ समूह 55 2

**मेघजीवन**  
चातक 126 39

**मेघ ज्योति**  
मेघ विद्युत 55 9

**मेघ दुंदुभि**  
असुर सूची 783 8

**मेघनाथ**  
मेघनाद 784 10

**मेघनाद**  
मेघ गडगडाहट 297 11  
मेघनाद 784 10 ⇌  
राक्षस सूची 784 4  
वरुण 773 43

**मेघनादजित**  
लक्ष्मण 170 49

**मेघनाद: पत्नी**  
मेघनाद पत्नी 784 11 ⇌  
सुलोचना 784 29

**मेघ पथ**  
आकाश 2 1

**मेघ बरसना**  
वर्षा होना 54 17

**मेघमयता**  
मेघाच्छन्नता 55 7

**मेघ मल्लार**  
राग रागिनी सूची 457 24

**मेघ माला**  
मेघ समूह 55 2

**मेघमाली**  
यक्ष सूची 779 3

**मेघ योनि**  
कोहरा 90 10

**मेघवर्ण**  
यक्ष सूची 779 3

**मेघवान**  
दानव सूची 783 13

**मेघ वाहन**  
इंद्र 773.5

**मेघ विद्युत**  
मेघ विद्युत 55.9 ⇌

**मेघ समूह**  
मेघ समूह 55 2 ⇌

**मेघ समूह आना**  
मेघ समूह आना 55.12 ⇌

**मेघहीन**  
मेघहीन 55.15 ⇌

मेघांत  
शरद काल 53.4  
मेघा  
मेघ 55 1  
मेघागम  
वर्षा काल 54 1  
मेघाच्छन्न  
ताराहीन 3 17  
मेघाच्छन्न 55 14 ⇨  
मेघाच्छन्नता  
मेघाच्छन्नता 55 7 ⇨  
मेघाच्छन्न होना  
मेघाच्छन्न होना 55 13 ⇨  
मेघाच्छादित  
मेघाच्छन्न 55 14  
मेघानंद  
बगला 126 54  
मोर 126 68  
मेघायमान  
मेघाच्छन्न 55 14  
मेघायित  
मेघाच्छन्न 55 14  
मेघारि  
वायु 85.1  
मेघालय  
मेघालय 28.62 ⇨  
मेघालयः राजधानी  
मेघालयः राजधानी 28 63 ⇨  
मेघावरी  
काला मेघ 55.3  
मेघ समूह 55 2  
मेघावली  
मेघ समूह 55.2  
मेज़  
भोजन पटल 194 10  
मेज़ 595.33 ⇨  
मेज़ कुरसी  
फ़रनीघर 595 1  
मेज़ घड़ी  
मेज़ घड़ी 50.24 ⇨  
मेज़बान  
आतिथेय 183 15  
घराती 801.6  
भोजदाता 183 14  
मेट (अँ)  
उप पोताध्यक्ष 1080.17  
श्रमिक अध्यक्ष 652.21  
मेटक  
निवारक 920 18  
मेटना  
नष्ट करना 531 5  
निरस्त करना 338.24  
निवारण करना 920.14  
मेटिया  
दूध घका 679.11  
मेट  
महावत 1082.15

मेङ्गर  
घेरा 604 7  
बाहरी घेरा 972.7  
मेङ्गिया  
छाँटा मठ 745 8  
मेड  
पुरुष जननैद्रिय 52 10  
मेङ्गा  
नर मेङ्ग 127 25  
मेथिका  
मेथी 281 28  
मेथी  
मेथी 281.28 ⇨  
मेथी साग  
साग सब्जी सूची 189 4  
मेद  
उदर 148 6  
मेदज  
अस्थि 133 1  
मेदपुच्छ  
दुबा 127 26  
मेदस्वी [मेदस्थिनी]  
मासल 154 33  
वसायुक्त 132.22  
मेदा  
उदर 148 6  
यसा 132 4  
मेदाबुध  
रसीली 168 7  
मेदिनी  
पृथ्वी 9 1  
मेदुर  
मासल 154 33  
वसायुक्त 132 22  
मेध  
बलि पशु 754 10  
यज्ञ 753.1  
हिंसक बलि 754 4  
मेधा  
प्रतिभा 301 8  
बुद्धि 301 1  
मेधा 774 74 ⇨  
मेधाकर  
स्मृति वर्धक 356.18  
मेधातिथि  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
मेधाविनी  
ब्रह्मणी 774.58  
सरस्वती 775 8  
मेधावी  
तोता 126.44  
प्रतिभाशाली 301.27  
विष्णु 768.1  
मेधावी [मेधाविनी]  
बुद्धिमान 301.21  
मेधिस  
बुद्धिमान 301.21

मेघ्य  
नर बकरी 127.23  
यज्ञीय 753.32  
यज्ञोपयुक्त 753.33  
स्मृति वर्धक 356.18  
मेनका  
अप्सरा सूची 782 3  
मेन गेट (अँ)  
मुख्य द्वार 608.7  
मेन मार्केट (अँ)  
मुख्य बाज़ार 683 4  
मेन रोड (अँ)  
मुख्य सड़क 1063.34  
मेन लाइन  
मेन लाइन 1066.17 ⇨  
मेन लाइन (अँ)  
मेन लाइन 1066 17  
मेनाद  
दिल्ली 127 58  
मेनापति  
हिमालय 17 7  
मेनाः पुत्री  
पार्वती 776 9  
मेमना [मेमनी]  
मेङ्ग बकरी शिशु 230 17  
मेमार  
भवन निर्माता 598 2  
रघेता 527 14  
राजगीर 599 20  
स्थपति 599.2  
मेमारी  
भवन निर्माण 598.1  
राजगीरी 599 19  
स्थापत्य 599 1  
मेयर (अँ)  
नगर निगम अध्यक्ष 892 9  
मेरा [मेरी]  
मेरा [मेरी] 316.27 ⇨  
मेराज  
सीड़ी 613 6  
मेरी (अँ)  
मरियम 791.19  
मेरी कहानी  
आत्मकथा 450.21  
मेरीनो  
मेरीनो 568.11  
मेरु  
अक्ष 1077.11  
पृथ्वी ध्रुव 10 10  
मुख्य मनका 228.49  
सुमेरु 17.17  
मेरुक  
गंध धूप 274.17  
मेरु बंड  
अक्ष दंड 1077.12  
पृथ्वीः अक्ष 10.9  
रीड 133.14

मेरु दक्षिणरथ नाड़ी  
इका नाड़ी 757.3  
मेरु पर्वत  
पौराणिक पर्वत सूची 17.8  
मेरु पृष्ठ  
आकारा 2.1  
मेरु मध्यरथ नाड़ी  
सुपुम्ना नाड़ी 757.5  
मेरु रज्जु  
रीड रज्जु 131.15  
मेरु वामरथ नाड़ी  
पिंगला नाड़ी 757.4  
मेरे द्वारा  
स्वकृतत 505 35  
मेल  
एकता 698 1  
कोटि 936 1  
प्रेम 368.1  
मित्रता 705 1  
मिलन 389 1  
सादृश्य 309.3  
सामंजस्य 702 1  
मेल (अँ)  
डाक 444 23  
मेल खाना  
मित्र बनना 705 19  
मेलजोल  
घनिष्ठता 704.13  
संगति 696.1  
मेल न बैठना  
सामंजस्य न होना 701.6  
मेल बैठना  
मित्र बनना 705 19  
संगत होना 438.3  
मेल मिलाप  
संगति 696.1  
समझौता 877.5  
मेल मिलापी  
संगी 696 2  
मेल मुलाकात  
संगति 696.1  
मेल मुलाकाती  
परिचित 704.19  
संगी 696.2  
मेलो  
अव्यवस्थित समूह 690 4  
उत्सव 56.1  
मेलो बाज़ार 683.10  
संग्रह 669.2  
सभा 694.1  
समारोह 694.15  
मेलो ठेला  
उत्सवपूर्णता 56.2  
मेलो बाज़ार 683.10  
मेलो तन्नाशा  
मेलो बाज़ार 683.10  
मेलोपाक  
ग्रहयोग 261.28

## मेलापन

परिचय सस्थापक 704 21  
मिलाने वाला 389 9  
सयुक्त कर्ता 1010 23  
**मेलापन**  
मिलाई 389 2  
**मेला बाज़ार**  
मेला बाज़ार 663 10 ⇨  
**मेली**  
पुरुष मित्र 705 2  
मिलनसार 696 24  
सगी 696 2  
**मेल्वोवेअर**  
मेल्वोवेअर 680.11 ⇨  
**मेवा**  
मेवा 191 1 ⇨  
**मेवा सूची**  
मेवा सूची 191 2 ⇨  
**मेघ**  
नर भेड़ 127.25  
**मेघ कुक्कुट लावक युद्ध विधि**  
चीसठ कला सूची 397 4  
**मेघपाल**  
भेड़ बकरी पालक 555 2  
**मेघ राशि(2हट मार्च से 20 अप्र)**  
राशि सूची 4 8  
**मेघ लोम**  
ऊन 568.9  
**मेघ विबुध**  
वसत विबुध 5 24  
**मेघी**  
भेड़ 127 24  
**मेहेंदी**  
मेहेंदी 225.33 ⇨  
मेहेंदी लगाई 800.37  
**मेहेंदी रंजन**  
सोलह सिंगार सूची 222.3  
**मेहेंदी लगाई**  
मेहेंदी लगाई 800.37 ⇨  
**मेह**  
नर बकरी 127 23  
प्रमेह 163 33  
मूत्र 216 15  
मूत्राधिक्य 163 32  
वर्षा 54.5  
**मेहतर [मेहतरानी] (पुराना)**  
शीघालय कर्मा 216.24  
**मेहन**  
पुरुष जननेंद्रिय 152 10  
**मेहनत**  
अनुशीलन 321 25  
असुविधा 519 3  
परिश्रम 493 1  
श्रमिकता 651.18  
**मेहनतकवा**  
श्रमिक 651 19  
**मेहनत की कमाई खाना**  
स्वावलंबी होना 648.6

**मेहनत मजदूरी**  
श्रमिकता 651 18  
**मेहनत मींगना**  
कठिन होना 519 15  
**मेहनत से**  
परिश्रमपूर्वक 493 14  
**मेहनताना**  
पारिश्रमिक 643 8  
**मेहनती**  
परिश्रमी 493 9  
स्वायलंबी 648 11  
**मेहनतीपन**  
परिश्रमशीलता 493 2  
**मेह बरसना**  
वर्षा होना 54 17  
**मेहमान**  
अतिथि 183 16  
दामाद 724 22  
भोजातिथि 183 17  
**मेहमान खाना**  
गैस्टरूम 1090 30  
गैस्ट हाउस 1090 31  
**मेहमानदार**  
अतिथि परायण 183 40  
आतिथेय 183 15  
**मेहमानदारी**  
अतिथि परायणता 183 12  
सत्कार 184.1  
**मेहमान नवाज़**  
अतिथि परायण 183 40  
आतिथेय 183.15  
**मेहमान नवाज़ी**  
अतिथि परायणता 183.12  
**मेहमान नवाज़ी**  
सत्कार 184.1  
**मेहमान सराय**  
गैस्ट हाउस 1090 31  
**मेहरबान**  
दयालु 834 12  
**मेहरबानी**  
दया 834 1  
घन्यवाद 833.2  
**मेहरा**  
स्त्रेण 236 25  
**मेहराना**  
सीलना 88.20  
**मेहराब**  
चीखट. शीर्ष काष्ठ 609.2  
पुल 1065 8  
मेहराब 611.29 ⇨  
**मेहराबदार रास्ता**  
छतदार मार्ग 1063.24  
**मेहराब निर्माण**  
मेहराब निर्माण 600.7 ⇨  
**मेहराब: शिखर पत्थर**  
मेहराब: शिखर पत्थर 611.30 ⇨  
**मेहराबी**  
वक्र तलवार 924.9

**मेहराक**  
पत्नी 803 6  
स्त्री 236 3  
**मेहरी**  
पत्नी 803 6  
**मेहरीली**  
मेहराब 611 29  
**मेहा**  
मेघ 55 1  
वर्षा 54 5  
**मेह**  
सूर्य 8 1  
**मै**  
मै 316 20 ⇨  
**मैगनीज़**  
मैगनीज़ 94 12  
**मैटल (ऑ)**  
भू प्रावार 9 10  
**मैटल डिसेंडर (ऑ)**  
मनोरोग 354 1  
**मैटलपीस (ऑ)**  
दीवार घड़ी 50 25  
**मैटल हास्पिटल (ऑ)**  
पागलखाना 354.17  
**मैद**  
यानर सूची 781 7  
**मै ने भी यही कहा था**  
अतिदेश 435 13  
**मैबर (ऑ)**  
सदस्य 692 30  
**मैबर आक्र पार्लिमेंट (ऑ)**  
सांसद 889.2  
**मैबरशिप (ऑ)**  
सदस्यता 692 29  
**मै भाव**  
अहं तत्त्व 351.3  
**मै भी यही कहता हूँ**  
अनुदेश 435 14  
**मै होना: भाव**  
अहं तत्त्व 351 3  
**मैक नंबर (ऑ)**  
नभयान गति माप 958 33  
**मैकरल**  
मैकरल 125.10 ⇨  
**मैकरल (ऑ)**  
मैकरल 125 10  
**मैका**  
पीहर 601.8  
**मैकाडम (ऑ)**  
कोलतार सड़क 1063.43  
**मैकेनिकल (ऑ)**  
यंत्रीय 558.23  
**मैक्सी**  
मैक्सी 585.43 ⇨  
**मैक्सी (ऑ)**  
मैक्सी 585.43  
**मैग (ऑ) (बीज रूप)**  
पत्रिका 445 2

**मैगज़िनिस्ट (ऑ)**  
पत्रिका कर्मा 445 9  
**मैगज़ीन (ऑ)**  
पत्रिका 445 2  
बारूद घर 929 5  
भंडार घर 670 5  
**मैगनीज़**  
मैगनीज़ 94 12 ⇨  
**मैग्नेट (ऑ)**  
चुंबक पत्थर 1050 8  
**मैग्नेटिक टेप**  
मैग्नेटिक टेप 571 22 ⇨  
**मैग्नेटिक टेप (ऑ)**  
मैग्नेटिक टेप 571 22  
**मैग्नेटिज़्म (ऑ)**  
चुंबकता 1050 7  
**मैघ (ऑ)**  
खेल प्रतियोगिता 475 15  
**मैघबावस (ऑ)**  
माचिस पेंटी 107 8  
**मैघ्योरिंग (ऑ)**  
पक्कन 195 41  
**मैज़नीन (फ्रा)**  
मियानी 612 5  
**मैज़रिंग टेप (ऑ)**  
मापक टेप 959 6  
**मैज़िक (ऑ)**  
जादू 474 2  
**मैज़िक सेंटर (ऑ)**  
प्रोजेक्टर 470 8  
**मैज़ेडा (ऑ)**  
मुद्रण लाल 289 64  
**मैज़ोरिटी (ऑ)**  
बहुमत 343 5  
**मैट (ऑ)**  
घटाई 593 49  
**मैट (प्रिंट) (ऑ)**  
मैट (प्रिंट) 405 8  
**मैट (प्रिंट)**  
मैट (प्रिंट) 405 8 ⇨  
**मैटर (ऑ)**  
मुद्रण पाखुलिपि 412 30  
**मैटरनिटी लीव (ऑ)**  
प्रसव अवकाश 494 11  
**मैटरनिटी होम (ऑ)**  
प्रसूति गृह 244.8  
**मैटल (ऑ)**  
धातु 93 1  
**मैटलिक (ऑ)**  
धातवीय 93.18  
**मैटिंग (ऑ)**  
घटाई 593.49  
**मैट्रन (ऑ)**  
मदर 744.30  
**मैट्रिक्स (ऑ)**  
सौंघा 585 18  
सौंघा सूची 565.20

**मेट्रिमनी**  
मेट्रिमनी 798 33 ⇨  
**मेट्रिमनी (अँ)**  
मेट्रिमनी 798 33  
**मेट्रेस (अँ)**  
भारी गद्दा 593 42  
**मेट्रो (अँ)**  
भूमिगत रेलगाड़ी 1071 68  
भूमिगत रेलमार्ग 1066 19  
गहानगर 620 12  
**मैडम (अँ)**  
विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856 6  
**मैडल (अँ)**  
पदक 857 7  
**मैडिकल चैकअप (अँ)**  
डाक्टर की परीक्षा 171 3  
**मैडिकल लीव (अँ)**  
रोग अवकाश 494 12  
**मैडिकल सर्टिफिकेट (अँ)**  
त्रिकेल्सा प्रमाण पत्र 494 13  
**मैडिसिन (अँ)**  
औषध 176 1  
**मैत्र**  
सूर्यीय 8 9  
**मैत्रक**  
बौद्ध मठाधीश 744 39  
**मैत्रायणी उपनिषद्**  
उपनिषद् सूची 740 13  
**मैत्रायरुणि**  
वसिष्ठ 789 18  
**मैत्री**  
मित्रता 705 1  
सामजस्य 702 1  
सौमनस्य 705 18  
**मैत्रीपूर्ण**  
मित्रतापूर्ण 705 26  
सामाज्यपूर्ण 702 6  
**मैत्री भंग**  
मित्रता विरथापना 705 16  
**मैत्रीहीनता**  
वैमनस्य 706 10  
**मैत्रेय**  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
बोधिमत्त्व सूची 793 16  
सूर्य 8 1  
**मैत्रेयी**  
अहल्या 770 17  
ऋषि स्त्री सूची 789 25  
**मैथिल**  
जनक 770 28  
**मैथिली**  
सीता 770 66  
**मैथुन**  
रति सयोग 237 10  
**मैथुन सृष्टि प्रवर्तक**  
दक्ष 787 2  
**मैथुनाक्षम**  
नपुंसक 238 18

**मैदा**  
मैदा 192 5 ⇨  
**मैदान**  
उपयुक्त अवसर 70 3  
कनागद मैदान 1083 30  
कुरती मैदान 482 11  
खेल मैदान 482.10  
घास मैदान 11 5  
मैदान 11 1 ⇨  
युद्ध क्षेत्र 905 6  
रंगभूमि 471 13  
विस्तार 981 2  
शौच स्थान 216 17  
समतल भूमि 986 3  
**मैदान छोड़ना**  
युद्ध पलायन करना 916 14  
**मैदान मारना**  
कठिन कार्य करना 487 17  
जीतना 912 12  
**मैदान में आना**  
अखाड़े में आना 917 5  
अखाड़े में उतरना 486 23  
**मैदान हारना**  
पराजित होना 913 3  
**मैदानी**  
समतल 986 9  
**मैदाने जंग**  
युद्ध क्षेत्र 905 6  
**मैद**  
कामदेव 773 12  
मोम 110 22  
**मैद पावर (अँ)**  
नूबल 101 5  
**मैदमेड फ्रैजिक (अँ)**  
रासायनिक वस्त्र 579 14  
**मैदमेड यार्न (अँ)**  
रासायनिक धागा 564 15  
**मैदा**  
गायक पक्षी सूची 126 9  
मैदा 126 67 ⇨  
बाघात पक्षी सूची 126 11  
सारंगी 461 86  
**मैदाक**  
दानव सूची 783 13  
पौराणिक पर्वत सूची 17 8  
मैदाक 17 14 ⇨  
**मैदाल**  
मत्स्य आखेटक 252 16  
**मैनिया (अँ)**  
उन्माद 354 4  
ख़्बत 353 11  
**मैनुअल (अँ)**  
प्रक्रिया पुस्तक 446 22  
**मैने**  
भानजा 722 43  
**मैनेज करना**  
प्रबंधन करना 655 15

**मैनेजमेंट (अँ)**  
प्रबंध 655 5  
प्रबंधक समष्टि 655 11  
**मैनेजर (अँ)**  
प्रबंधक 655 9  
**मैनेजर कार्यालय**  
प्रबंधालय 654 11  
**मैनेजिंग कमेटी (अँ)**  
प्रबंध समिति 692 23  
**मैन्युस्क्रिप्ट (अँ)**  
पांडुलिपि 412 29  
**मैन्यू**  
मैन्यू 199 8 ⇨  
**मैन्यू (अँ)**  
मैन्यू 199 8  
**मैप (अँ)**  
मानचित्र 10 17  
**मैमरी (अँ)**  
कंप्यूटर मैमरी 951 26  
**मैमोरेडम (अँ)**  
स्मारण पत्र 356 9  
**मैमोरेडम आफ अंडरस्टैंडिंग (अँ)**  
सहमति पत्र 339 7  
**मैया**  
देवी 774 49  
माता 717 7  
साधु स्त्री 790 17  
हाय 386 12  
**मैयार**  
करौटी पत्थर 566 9  
तराजू 962 9  
गोलने वाला 962 66  
समीक्षा मापदंड 398 4  
**मैरा**  
कृषि रक्षा मघान 550 4  
**मैराथन (अँ)**  
लंबी दौड़ 484 10  
**मैरिज (अँ)**  
वियाह 799 1  
**मैरी-गो-राउंड (अँ)**  
चक्र झूला 1034 9  
**मैरीना (अँ)**  
बेला पथ 1066 12  
**मैरीनो**  
मैरीनो 568 11 ⇨  
**मैल**  
तलछट 526 7  
त्वचा मल 215 5  
दुराशयता 818 4  
मल 214 1  
वैमनस्य 706 10  
**मैलख़ोर**  
मैलख़ोरा [मैलख़ोरी] 289 57  
**मैलख़ोरा [मैलख़ोरी]**  
खाकी 289 42  
मैलख़ोरा [मैलख़ोरी] 289 57 ⇨  
**मैल घुसाना**  
स्वच्छ करना 18 24

**मैलनकोलिया (अँ)**  
विषादोन्माद 354 12  
**मैलन्यूट्रीशन (अँ)**  
कुपोषण 179 4  
**मैलमीन**  
मैलमीन 581 6 ⇨  
**मैलमीन (अँ)**  
मैलमीन 581 6  
**मैला**  
देह मल 215 1  
विष्ठा 216 2  
**मैला [मैली]**  
कदृश्य 282 21  
घृणित 370 6  
घृलमय 100 24  
मलिन 217 6  
**मैला कुधैला [मैली कुधैली]**  
मलिन 217 6  
**मैलापन**  
मलिनता 217 1  
**मैलामाइन (अँ)**  
मैलमीन 381 6  
**मैलोड्रामा**  
मैलोड्रामा 463 8 ⇨  
**मैलोड्रामा (अँ)**  
अतिनाटकियता 466 3  
मैलोड्रामा 463 8  
**मैलिंग पाइंट (अँ)**  
गलनाक 103 14  
**मैल्मोवेअर (ब्रांड नाम)**  
मैल्मोवेअर 680 11  
**मैश (अँ)**  
जाली 572 18  
**मैशीन (अँ)**  
यंत्र 558 10  
**मैशीन टूल्स (अँ)**  
यंत्रोपकरण 558 8  
**मैस (अँ)**  
मैस हाल 194 7  
**मैसमे बहार**  
वसत काल 52 1  
**मैसर्स (अँ)**  
पत्रारथ संबोधन आदि सूची 444 41  
**मैस हाल**  
मैस हाल 194 7 ⇨  
**मैस हाल (अँ)**  
मैस हाल 194 7  
**मैसूर (विलुप्त राज्य)**  
कर्नाटक 28 19  
**मैसेंजर (अँ)**  
दूत 443 9  
सदेश वाहक 443 3  
**मैसेज (अँ)**  
संदेश 443 1  
**मैसोकिज़्म (अँ)**  
आत्मपीडनोन्माद 353 18  
स्वपीडन 391 12

## मैसोकिस्ट (अँ)

### मैसोकिस्ट (अँ)

स्वपीडक 391 31

### मैसोरिज्म (अँ)

हिप्नोटिज्म 758.30

### मैहर

पीहर 601 8

### मॉछ

मूँछ 136 5

### मौंडा

मूंडा 595 22

### मौताज (अँ)

फ़िल्म सपादन 472.21

### मो

मै 316 20

### मोकला

छिद्र 271 6

बका छिद्र 271 10

### मो कू

मुझे 316 38

### मोक्ष

उच्छल 1030 8

चतुर्वर्ग सूची 761 23

प्रक्षेप 1052 1

ब्रह्मलीनता 755 6

मोक्ष 257 1 ⇐

### मोक्ष इच्छुक

मोक्ष इच्छुक 257.2 ⇐

### मोक्षगत

मोक्षगत 257.7 ⇐

### मोक्षण

उन्मोचन 1015 1

### मोक्षद [मोक्षदा]

मोक्षप्रद 257 8

### मोक्ष धाम

मोक्ष लोक 258 10

### मोक्ष न मिलना

आवागमनग्रस्त होना 246 9

### मोक्षप्रद

मोक्षप्रद 257.8 ⇐

### मोक्षप्रद [मोक्षप्रदा]

मोक्षप्रद 257 8

### मोक्ष प्राप्त

मोक्षगत 257.7

### मोक्ष प्राप्त होना

मोक्ष प्राप्त होना 257.8 ⇐

### मोक्ष मार्ग

मोक्ष साधन 257 3

### मोक्ष लोक

मोक्ष लोक 258 10 ⇐

### मोक्ष शास्त्र

अध्यात्म 761 1

### मोक्ष साधन

मोक्ष साधन 257 3 ⇐

### मोक्ष साधन सूची

मोक्ष साधन सूची 257 4 ⇐

### मोक्षहीनता

आवागमन चक्र 246.3

### मोक्षेच्छुक

मोक्ष इच्छुक 257 2

### मोखा

आला 671 18

गयाक्ष 608 15

छिद्र 271 6

तरु कोटर 603 2

पीपहोल 608 18

पोर्टहोल 608 19

पोल 271 17

### मोगरा

उपवन पुष्प सूची 14 2

नुकती 203.16

बेला 14 20

### मोघ

अनुपयोगी 525 8

लक्ष्य च्युत 931 23

### मोघ

मोघ 392 12 ⇐

वृक्ष निर्यास 84.8

### मोघक

उन्मोचक 1015 10

सहजन 13 24

### मोघन

उद्घाटन 693 2

उन्मोचन 1015 1

कुठा मोघन 352 12

प्रथि मोघन 574 3

पुनराक्रय 660 9

संकट मोघन 910.1

### मोघयिता [मोघयित्री]

उन्मोचक 1015 10

### मोघित

समाहित (शस्त्र) 930 18

### मोघी

घर्म कर्मी 582 3

### मोज़ा

मोज़ा 588 7 ⇐

### मोज़ा: गेटिस

गेटिस 571.27

### मोट

गठरी 674.2

घरसा कुओं 19 11

### मोटन

पिसाई 540 6

### मोटर (अँ)

इंजन 1078.1

### मोटर कार (अँ)

कार 1071 55

### मोटर गाड़ी

कार 1071 55

मोटर यान 1071 54

### मोटर चालक

झाइवर 1079 13

### मोटर चालन

झाइविंग 1079 12

### मोटर ट्रक (अँ)

ट्रक 1071 10

### मोटर ठेला

ट्रक 1071.10

### मोटर झाइवर

झाइवर 1079 13

### मोटर दीड़ मैदान

मोटर दीड़ मैदान 1063 29 ⇐

### मोटर धायनी

मोटर दीड़ मैदान 1063 29

### मोटर बस

बस 1071 60

### मोटर बाइक (अँ)

मोटर साइकिल 1071 49

### मोटर बोट (अँ)

यत्र नौका 1072 10

### मोटर मार्ग

मोटर मार्ग 1063.14 ⇐

### मोटर मार्ग पर होटल

मोटल 1090 36

### मोटर यान

मोटर यान 1071 54 ⇐

### मोटर रेसकोर्स (अँ)

मोटर दीड़ मैदान 1063 29

### मोटर लांघ (अँ)

यत्र नौका 1072 10

### मोटर लारी

बस 1071 60

### मोटर वीथी

मोटर दीड़ मैदान 1063 29

### मोटरवे (अँ)

मोटर मार्ग 1063 14

### मोटर वैहिकल (अँ)

मोटर यान 1071 54

### मोटर साइकिल

मोटर साइकिल 1071.49 ⇐

### मोटर साइकिल (अँ)

मोटर साइकिल 1071 49

### मोटरिंग (अँ)

झाइविंग 1079 12

### मोटरिस्ट (अँ)

झाइवर 1079 13

### मोटरी

गठरी 674 2

### मोटल

मोटल 1090 36 ⇐

### मोटल (अँ)

मोटल 1090 36

### मोटा

बोल्ड 413.15

### मोटा [मोटी]

अत्यधिक 944 7

चौड़ाई युक्त 965 11

दुनिवार्य 919 10

धनाढ्य 626 14

प्रगाढ़ 81 14

मोटा [मोटी] 965.12 ⇐

स्थूलकाय 154 29

### मोटा अर्थ

स्थूल अर्थ 426 11

### मोटा अस्तामी

धनाढ्य व्यक्ति 626 5

### मोटा आलेप

मोटा आलेप 292 2 ⇐

### मोटाई

चौड़ाई 965 4

मोटाई 965 8 ⇐

मोटाई माप 958 13

### मोटाई माप

मोटाई माप 958 13 ⇐

### मोटा गदा

मोटा गदा 593 43 ⇐

### मोटा गोला

बल्ला 597 5

### मोटा झोटा

खुरदुरा वस्त्र 579 4

निर्धन आहार 197 8

### मोटा ताज़ा [मोटी ताज़ी]

बलिष्ठ 160 10

मोटा ताज़ा [मोटी ताज़ी] (दे.)

स्थूलकाय 154 29

### मोटाताज़ापन

स्थूलकायता 154 10

### मोटाना

फूलना 988 8

### मोटापन

स्थूलकायता 154 10

### मोटापा

स्थूलकायता 154 10

### मोटा पीसना

दरदराना 540 12

### मोटा पेट

तोद 148 2

### मोटा रस्सा

मोटा रस्सा 570 8 ⇐

### मोटा वस्त्र

मोटा वस्त्र 579 8 ⇐

### मोटा सूत: चादर

मोटा सूत चादर 593 23 ⇐

### मोटा सेठ

सेठ 626 8

### मोटा हिसाब

कच्चा जोड़ 954 4

### मोटिव क्रॉस (अँ)

मनसिजा 352 5

### मोटी चादर

मोटी चादर 593.22 ⇐

### मोटी झिल्ली

मोटी झिल्ली 990 27 ⇐

### मोटी दीवार

मुख्य दीवार 607 2

### मोटी परत

पपड़ी 990 24

### मोटी बात

स्थूल अर्थ 426 11

### मोटी बुद्धि वाला

मदधी 302 8

**मोटे तीर पर**  
अदाजन 947 28  
स्थूलत 426 43  
**मोटे पेट वाला**  
उन्नतोदर 158 29  
**मोठ**  
दलहन सूची 188 7  
मोठ 188 15 ⇐  
**मोड़**  
उथल पुथल 532 4  
तह 975 15  
दिशा परिवर्तन 1098 8  
मरोड़ 975 11  
मोड़ 974 10 ⇐  
मोड़ 1064 19 ⇐  
**मोड़ (दे.)**  
मोड़ 1064 19  
वक्रता 974 1  
**मोड़तोड़**  
सर्पिलता 974 5  
**मोड़ दर मोड़**  
सर्पिल मोड़ 974 13  
**मोड़दार**  
नाटकीय 466 19  
मोड़दार 974 23 ⇐  
वक्र 974 16  
सर्पिल 974 19  
**मोड़ना**  
मरोड़ना 975 22  
वक्र करना 974 14  
**मोड़ना तोड़ना**  
तोड़ना मरोड़ना 975 23  
**मोड़ निकालना**  
अवक्र करना 974 15  
**मोड़ लेना**  
दिशा बदलना 1098 18  
**मोड़हीन**  
अवक्र 974 17  
**मोड़हीनता**  
अवक्रता 974 2  
सीध 974 9  
**मोड़ा [मोड़ी]**  
मरोड़ा [मरोड़ी] 975 30  
**मोड़िगाड़ (अँ)**  
उपातरित 338 38  
**मोड़ा**  
मूड़ा 595.22  
मोड़ा 585.64 ⇐  
स्कंध 147.3  
**मोड़दिल जलवायु**  
समशीतोष्ण जलवायु 51 3  
**मोतबर**  
विश्वसनीय 340.13  
**मोतबरी**  
विश्वसनीयता 340.2  
**मोतिया**  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
सलमा 571.49

**मोतिया बिंद**  
मोतिया बिंद 164.4 ⇐  
**मोती**  
नवरत्न सूची 96 7  
मोती 97 2 ⇐  
रत्न सूची 96 5  
सुलेख उपमान सूची 412 11  
**मोती (दे.)**  
मनका 228 48  
**मोती: खोज**  
पनडुब्बापन 483 14  
**मोतीधूर**  
नुकती सूची 203 17  
मोतीधूर 977 9 ⇐  
**मोती पिरोना**  
सुलेखन करना 412 38  
**मोती माला**  
मोती माला 228.33 ⇐  
**मोती: लड़ी**  
सेहरा 802 26  
**मोती लड़ी: गुच्छा**  
मोती लड़ी गुच्छा 228 39 ⇐  
**मोथा**  
नागर मोथा 281 22  
**मोथी**  
कूदू 187 7  
**मोद**  
आनंद 382 1  
प्रसन्नता 381 1  
**मोदक**  
आनंदप्रद 382 18  
प्रसन्नताप्रद 381 9  
लड्डू 203 39  
**मोदककार**  
हलवाई 194 15  
**मोदन**  
प्रसन्न 381 2  
**मोदप्रद**  
प्रसन्नताप्रद 381 9  
**मोदमय**  
आनंदशील 382 19  
**मोदहीन**  
आनंदहीन 383 10  
**मोदहीनता**  
आनंदहीनता 383 2  
**मोदाख्य**  
आम वृक्ष 13 5  
**मोदित**  
आनंदित 382 17  
**मोदिनी**  
घमेली 14 16  
**मोदी**  
आनंदशील 382.19  
जनरल मर्येट 662.8  
पंसायी 863.14  
परचूनिया 861 15  
भंडार अध्यक्ष 670 6

**मोदीघाना**  
जनरल स्टोर 662 7  
भंडार घर 670 5  
रसद विभाग 656 11  
**मोना**  
मोना 137 29 ⇐  
**मोना [मोनी]**  
केशहीन 137 20  
मुडित 798 44  
**मोनोग्राम (अँ)**  
प्रतीक चिह्न 408 2  
**मोनोड्रम (अँ)**  
मोनोरल 1071 69  
**मोनोपली (अँ)**  
एकाधिकार 621.10  
**मोनोप्ले (अँ)**  
भाण 463 15  
**मोनोरल**  
मोनोरल 1071 69 ⇐  
**मोनोरल (अँ)**  
मोनोरल 1071 69  
मोनोरल मार्ग 1066 20  
**मोनोरल मार्ग**  
मोनोरल मार्ग 1066 20 ⇐  
**मोपेड**  
मोपेड 10/1 50 ⇐  
**मोपेड (अँ)**  
मोपेड 1071 50  
**मोबाइक (अँ)**  
मोटर साइकिल 1071 49  
**मोबिल आइल**  
मोबिल आइल 110.21 ⇐  
**मोबिल आइल (अँ)**  
मोबिल आइल 110 21  
**मोम**  
मोम 110.22 ⇐  
**मोमजामा**  
मोमजामा चादर 593 18  
**मोमजामा चादर**  
मोमजामा चादर 593.18 ⇐  
**मोमदिल**  
कोमल हृदयता 834 15  
**मोमदिली**  
कोमल हृदयता 834 6  
**मोम पत्थर**  
विपरीतता: उपमान सूची 310 13  
**मोमबत्ती**  
मोमबत्ती 285.10 ⇐  
**मोमिन**  
बुनकर: जाति सूची 576 8  
मुसलिम 736.2  
शीया मतावलंबी 736.9  
**मोमिन [मोमिना]**  
धर्मानुपालक मुसलमान 736.4  
**मोमिया**  
चिकना [चिकनी] 269.22  
**मोर्मटम (अँ)**  
संवेग 1042.10

**मोय**  
मुझे 316 38  
**मोयन**  
मोयन 196.3 ⇐  
**मोयनदार**  
खस्ता 197 30  
मोयनदार 197.21 ⇐  
**मोयन लगाना**  
मोयन लगाना 196.21 ⇐  
**मोर**  
मोर 126.68 ⇐  
सेहरा 802 26  
**मोर: कलगी**  
मोर: कलगी 140.7 ⇐  
**मोरचा**  
गंतव्य स्थान 1100 2  
जुलूस 1088 7  
धातु मल 214 5  
परिखा 604.20  
मोरचा 907 10 ⇐  
युद्ध क्षेत्र 905.6  
सैनिक खात 804 21  
**मोरचाबंदी**  
मोरचाबंदी 907.11 ⇐  
**मोरचा रोधन**  
मोरचा रोधन 920 10 ⇐  
**मोरचाल**  
मोरचाल 1084.17 ⇐  
**मोरचाल चलना**  
मोरचाल चलना 1084.38 ⇐  
**मोरचा वारण**  
मोरचा रोधन 920 10  
**मोरचे पर जाना**  
युद्ध पर जाना 907 38  
**मोरछल**  
ओझा उपकरण सूची 759 12  
मोरपख 151 7  
**मोरछला**  
मोरछला 85 29 ⇐  
मोरपंख 151 7  
**मोरछीह**  
मोरछला 85.29  
**मोरट**  
ईख मूल 112 13  
**मोरनी**  
नथ लटकन 228 17  
मादा मोर 126.69  
**मोरपंख**  
मोरपंख 151.7 ⇐  
**मोरपंख (दे.)**  
मोर: पंख 151.13  
**मोरपंखा**  
मोरछला 85.29  
**मोरपंखी**  
नीका सूची 1072.3  
मोरछला 85.29  
**मोरपर**  
मोरपंख 151 7

## मोर पूँछ

### मोरः पूँछ

मोर पूँछ 151 13 ⇨

### मोरः पूँछ (दे.)

मोरपंख 151 7

### मोर मुकुट

मोर मुकुट 584 15 ⇨

मोर 802 18

### मोरा

अगला डैक 1073 28

### मोरी

मूत्रालय 216 22

मोरी 23 13 ⇨

### मोर्चा

कठिन कार्य 519 2

जन प्रदर्शन 902 10

मोरचा 907 10

लोह मल 214 6

सेना व्यूह 907 8

### मोर्चाबंदी

व्यूह रचना 907 9

### मोल

क्रय 660 1

मूल्य 664 1

### मोलकयूल

मोलकयूल 78 21 ⇨

### मोलतोस

सीदेबाजी 658 6

### मोलना

भजित होना 539 7

### मोलभाय

सीदेबाजी 658 6

### मोल लेना

क्रय करना 660 14

### मोलकयूल (अं)

मोलकयूल 78 21

### मोल्ड (अं)

साँचा 565 18

### मोल्डिंग (अं)

ढलाई 565 7

### मोष

घोरी घटना 864 2

घोरी माल 864 8

### मोषक

घोर 864 3

### मोषण

घोर्य वृत्ति 864 1

लूट 864 21

विच्छेदन 543 11

### मोषयिता

घोर 864 3

### मोह

अज्ञान 306 1

आसक्ति 365 1

भ्रम 342 1

ममता 721 2

विषय वासना रूपी अज्ञान 761 2

षड्विकार सूची 812 5

षडक्लेश सूची 761 19

सम्मोह 367 1

### मोहक

कलापूर्ण 402 3

प्रलोभक 359 32

प्रिय 369 7

सम्मोहनपूर्ण 367 7

सुदर 157 7

### मोहक (दे.)

आकर्षक 1050 29

### मोहक छलना

मायावी दृश्य 312 8

### मोहकता

कलापूर्णता 402 1

प्रियता 369 1

सम्मोहकता 367 3

### मोहक भू भंगिमा करना

भू भंगिमा करना 284 38

### मोहकारी

भामक 342 11

### मोहग्रस्त

आराक्त 365 5

वशीकृत 758 41

सम्मोहित 367 6

### मोह जाल

गृहासक्ति 235 7

सम्मोह 367 1

### मोहका

अग्रभाग 994 9

छिद्र मुख 271 15

बरतन मुँह 680 22

### मोहताज

इच्छुक 359 21

### मोह त्याग

विरक्ति 366 2

### मोहन

आलोभन 359 8

काम बाण सूची 773 17

कृष्ण 771 1

दिव्यास्त्र सूची 928 2

प्रलोभक 359 32

सम्मोहन 367 2

सम्मोहनपूर्ण 367 7

### मोहन [मोहिनी]

सुदर 157 7

### मोहन भोग

मोहन भोग 203 30 ⇨

### मोहन माला

मटर माला 228 54

### मोहन मुरारि

कृष्ण 771 1

### मोहन यंत्र

वशीकरण यंत्र 758 21

### मोहना

आसक्त करना 365 4

प्रेमानुरक्त करना 368 14

लुब्ध करना 359 16

सम्मोहन करना 367 5

### मोहनातीत

अलुब्ध 360 17

### मोह निद्रा

अज्ञान अधिकार 306 2

मताघता 343 11

हिप्नोटिज्म 758 30

### मोहपूर्ण

अज्ञानपूर्ण 306 11

स्वजन भावनापूर्ण 725 6

### मोह भंग

विरक्ति 366 2

### मोह ममता

ममता 721 2

### मोहमय [मोहमयी]

ममतापूर्ण 721 13

### मोह माया

माया 762 9

### मोहम्मद

मुहम्मद 791 20

### मोहम्मदी

इसलामी 736 29

### मोहर

अशरफी 629 8

नामांकित अँगूठी 228 4

मुद्राक 414 17

मुद्रा 414 15

रबड़ मुहर 414 19

सेहरा 802 26

### मोहरबंद

मुहरबंद 414 25

### मोहरा

गोटी 479 1

बरतन मुँह 680 22

मुख जाली 555 28

सह खिलाड़ी 475 5

सेनाग्र 933 1

### मोहरी

बरतन मुँह 680 22

मोहरी 586 23 ⇨

### मोहरीः क्रीड़ा

क्रीड़ा 975 3

### मोहरम

मुहरम 57 51

### मोहररिप

घिट्टा लेखक 632 23

### मोहलत

अतिम अवसर 70 7

मोहलत 39 5 ⇨

### मोहसिन

उपकारी 832 10

सहायता दाता 700 25

### मोहहीन

अनासक्त 366 5

निर्दय 835 10

परजन भावनापूर्ण 725 8

### मोहहीनता

अनासक्ति 366 1

निर्दयता 835 2

परजन भावना 725 4

### मोहातीत

अलुब्ध 360 17

### मोहार

बरतन मुँह 680 22

मधुमक्खी छत्ता 603 5

### मोहि

मुझे 316 38

### मोहि

मुझे 316 38

### मोहित

आकर्षित 1050 28

आश्चर्यित 379 8

आसक्त 365 5

प्रमित 342 10

लुब्ध 359 30

वशीकृत 758 41

सम्मोहित 367 6

### मोहित करना

सम्मोहन करना 367 5

### मोहित होना

आसक्त होना 365 3

### मोहिनी

अप्सरा सूची 782 3

खलनायिका 467 13

भोग 210 1

माया 762 9

मोहिनी अवतार 769 11

वशीकरण 758 22

वशीकरण विद्या 758 20

विष्णु चौबीस अवतार सूची 769 9

सम्मोह 367 1

सम्मोहकता 367 3

सुदर स्त्री 157 2

### मोहिनी अट्टम

भारतीय शास्त्रीय नृत्य सूची 462 7

### मोहिनी अयतार

मोहिनी अवतार 769 11 ⇨

### मोहिनी करण

सम्मोहन 367 2

### मोहिनी करना

सम्मोहन करना 367 5

### मोहिनी कृत

सम्मोहित 367 6

### मोहिनी डालना

जादू करना 474 33

### मोहिनी यंत्र

वशीकरण यंत्र 758 21

### मोहिनी विद्या

जादू 474 2

वशीकरण विद्या 758 20

### मोहिनी साधना

सम्मोहन 367 2

### मोही

लोभी 359 31

### मोही [मोहिनी]

प्रलोभक 359 32

ममतापूर्ण 721 13



मायावी 7६2 17	<b>मीज मेला</b>	<b>मीत की सजा देना</b>	<b>मीनानुकूलता</b>
सम्मोहन कर्ता 367 8	आनदपूर्णता 382 2	मृत्यु दंड देना 871 18	<i>मीनानुकूलता 861 10</i> ⇨
सम्मोहनपूर्ण 367 7	आनद मंगल 382 3	<b>मीत के घाट उतारना</b>	<b>मीनायलंबी</b>
<b>मीक्रा</b>	<b>मीजा</b>	भारणा 251 18	<i>मीनायलंबी 429 23</i> ⇨
अवसर 70 1	आधान स्थान 67 17	<b>मीत के मुंह में सिर डालना</b>	<b>मीनीय</b>
उपयुक्त अवसर 70 2	ग्राम 620 1	जान की बाजी लगाना 909 17	मुनीय 789 29
घटना स्थल 75 5	<b>मीजी</b>	<b>मीतः फरिश्ता</b>	<b>मीनिर</b>
परिस्थिति 69 5	अलमस्त 382 23	<i>मीत फरिश्ता 256 9</i> ⇨	<i>मीनिर 951 19</i> ⇨
पारी 70 9	आनदशील 382 19	<b>मीतः हरकारा</b>	<b>मीनिर (अँ)</b>
प्रसंग 437 1	<b>मीजू</b>	यमदूत 256 8	कप्यूटर मीनिर 606 7
प्रसंग अवसर 437 2	तर्कपूर्ण 325 21	<b>मीदगसि</b>	मीनिर 951 19
समाधान लक्षण 68 3	<b>मीजू</b>	कोआ 126 22	<b>मीनिर बिंदु</b>
संयोग 69 1	रागत 438 6	<b>मीदगल्यायन</b>	चित्र बिंदु 968 3
<b>मीक्राए वारदात</b>	<b>मीजूद</b>	बुद्ध शिष्य सूची 793 12	<b>मीनी</b>
घटना स्थल 75 5	अस्तित्वशाली 246 11	<b>मीन</b>	ऋषि 789 2
<b>मीक्रा महल</b>	उत्पन्न 546 9	अतरामिमुखी 838 14	ऋषि मुनि सूची 789 17
परिस्थिति 69 5	उद्यत 491 15	अनभिव्यक्ति 429 1	ध्यानी 331 12
प्रसंग अवसर 437 2	उपलब्ध 943 9	गूंगा [गूंगी] 164 5	मुनि 789 15
समाधान लक्षण 68 3	उपस्थित 1021 9	ध्वनिहीन 295 4	मीन 429 22
<b>मीक्रफ</b>	वर्तमान 66 6	ध्वनिहीनता 295 1	मीन बली 429 24
ध्रुव 653 36	स्थित 1020 8	निरुत्तर 335 10	<b>मीनायलंबी 429 23</b>
निर्दिष्टता 653 35	<b>मीजूदनी</b>	मुनीय 789 29	<b>मीनेय</b>
वाक्पिंड 338 44	अस्तित्व 246 1	<i>मीन 429 22</i> ⇨	मुनीय 789 29
<b>मीक्रफ्री</b>	उपलब्धता 943 1	मीन भाव 429 3	<b>मीनेय गंधर्व</b>
सर्व च्युति 673 15	<b>मीजूदगी</b>	<b>मीन अनुमति</b>	देव गंधर्व 778 9
समा मिलन 653 14	उपस्थिति 1021 2	<i>मीन अनुमति 337 7</i> ⇨	<b>मीनेयः माता</b>
<b>मीक्रे का फायदा उठाना</b>	<b>मीजूदगी</b>	<b>मीन करना</b>	मुनि 787 17
अवसर उपभोग करना 70 11	पेशी 876 5	<i>मीन करना 429 15</i> ⇨	<b>मीनेस्ट्री (अँ)</b>
<b>मीके की बात</b>	वर्तमानता 66 1	<b>मीनतः</b>	ईसाई मठ 745 10
संयोग 69 1	<b>मीजूदा</b>	<i>मीनत 429 29</i> ⇨	<b>मीर</b>
<b>मीक्रे पर</b>	वर्तमान 66 6	<b>मीनता</b>	मंजरी 115 10
उपयुक्त अवसर पर 70 16	वर्तमान कालीन 36 21	मीन भाव 429 3	<i>मीर 802 18</i> ⇨
<b>मीकिक</b>	<b>मीजूदा हालात</b>	<b>मीन न रहना</b>	<b>मीरबंदी</b>
माती 97 2	वर्तमान परिस्थिति 69 6	मुदर होना 428 10	सेहरा बंधाई 800 53
<b>मीखिक</b>	<b>मीडम</b>	<b>मीन न होना</b>	<b>मीर बंधाई</b>
<i>मीखिक 412 43</i> ⇨	<i>मीडम 961 18</i> ⇨	मुखर होना 428 10	सेहरा बंधाई 800 53
<b>मीखिकता</b>	<b>मीडम (अँ)</b>	<b>मीनप्रियता</b>	<b>मीरुसी</b>
<i>मीखिकता 412.1</i> ⇨	मीडम 951 18	अतरामिमुखता 838 6	दायागत 623 27
<b>मीज</b>	<b>मीडरेटर (अँ)</b>	<b>मीन भाव</b>	पैतृक 727 43
अलमस्ती 382 7	सभा संचालक 604 20	<i>मीन भाव 429 3</i> ⇨	<b>मीरुसी जायदाद</b>
आनद 382 1	<b>मीडल (अँ)</b>	<b>मीन रहना</b>	पैतृक संपत्ति 624 7
मद 211 1	पुतला 406 5	<i>मीन रहना 429 13</i> ⇨	<b>मीरुसीपन</b>
मन तरंग 351 6	<b>मीडिक्राई करना</b>	<b>मीन व्रत</b>	आनुवंशिकता 727 17
मनोरजन 469 1	उपातरण करना 338 23	<i>मीन व्रत 429 4</i> ⇨	<b>मीर्ग (अँ)</b>
लहर 1040 17	<b>मीडिक्रिकेशन (अँ)</b>	<b>मीन ब्रती</b>	शयगृह 254 8
विलास 363 6	उपातरण 338 8	मुनि 789 15	<b>मीर्गुअरी (अँ)</b>
<b>मीज उद्यान</b>	<b>मीत</b>	<i>मीन ब्रती 429 24</i> ⇨	शयगृह 254 8
विलास करना 363 12	मृत्यु 249 1	<b>मीन सम्मति</b>	<b>मीर्गोजर (अँ)</b>
<b>मीज मनाना</b>	सकट 909 1	मीन अनुमति 337 7	बघक कर्ता 633 39
आमोद यात्रा करना 1085 11	<b>मीत आना</b>	<b>मीन सहमति</b>	<b>मीर्गोजड (अँ)</b>
<b>मीज मस्ती</b>	मरना 249 18	<i>मीन अनुमति 337 7</i>	बघकित 633 38
अलमस्ती 382 7	<b>मीत का खेल</b>	<b>मीन साधना</b>	<b>मीवी</b>
आनदपूर्णता 382 2	जान की बाजी 909 6	मीन होना 429 14	धनुष प्रत्यंघा 926 15
आनद मंगल 382 3	<b>मीत का सामना</b>	<b>मीन होना</b>	<b>मीलधी</b>
मनोरजन 469 1	प्राण सकट 909 5	<i>मीन होना 429 14</i> ⇨	अध्यापक 323 8
विलास 363 6	<b>मीत का सामना करना</b>	<b>मीना</b>	धर्म ग्रंथज्ञ 738 2
<b>मीज भारना</b>	जान की बाजी लगाना 909 17	चपटा टोकरा 677 2	धर्म दीक्षक 742 26
तरंगित होना 1040 29			धर्म शिक्षक 742 21

## मौलश्री

धर्मानुपालक मुसलमान 738 4  
**मौलवी** 744.24 ⇨  
**मौलवी**  
 मौलसिरी 13.20  
**मौलस**  
 मौलस 724.19 ⇨  
**मौलसरा**  
 मौलसरा 724.18 ⇨  
**मौलसरा: पत्नी**  
 मौलस 724 19  
**मौलसिरी**  
 उपवन पुष्प सूची 14 2  
 नगर वृक्ष सूची 13 2  
 मौलसिरी 13 20 ⇨  
 मौलसिरी 14 22 ⇨  
**मौलसिरी (दे. वृक्ष)**  
 मौलसिरी 14 22  
**मौला**  
 अल्लाह 764.12  
 अल्लाह 764.12  
 मुक्त दास 651 16  
 सहायता दाता 700 25  
**मौला दौला**  
 दानवीर 641.28  
**मौलाना**  
 मुल्ला 744 23  
**मौलि**  
 अशोक 13 4  
 मस्तक 140 12  
 शिखर 982 6  
**मौलिक**  
 आधारभूत 1019 14  
 प्रधान लक्षणयुक्त 317 25  
 मुख्य कोटीय 936.8  
 मौलिक 397.36 ⇨  
 विशुद्ध 219 7  
 स्वाभाविक 836.11  
**मौलिक कृति**  
 मौलिक कृति 397.24 ⇨  
**मौलिकता**  
 मौलिकता 397.23 ⇨  
 विशुद्धता 219 2  
 व्यक्तित्व 836 1  
**मौलिक रचना**  
 मौलिक कृति 397.24  
**मौलिक रूप**  
 अपरिवर्तित रूप 533 3  
**मौलिक मूजन**  
 मौलिकता 397 23  
**मौलि मणि**  
 मुकुट मणि 584 16  
**मौलिश्री**  
 मौलसिरी 13.20  
**मौली**  
 मुकुटधारी 899 18  
**मौलूद**  
 मौलूद शरीफ 739 7

**मौलूद शरीफ**  
 मौलूद शरीफ 739.7 ⇨  
**मौसक**  
 मौसा 722 45  
**मौसम**  
 ऋतु 51 13  
 गीयर 1077 28  
 जलवायु 51 1  
 मानसून 85 16  
 वय गणना उपमान सूची 229 12  
**मौसम विभाग**  
 जलवायु विभाग 51 7  
**मौसमी**  
 ऋतु कालीन 51 16  
 एक फसली वनस्पति 111 4  
**मौसमी**  
 खाद्य फल सूची 190 2  
**मौसल पर्व**  
 महाभारत पर्व सूची 771 23  
**मौसस**  
 मौसस 724 21 ⇨  
**मौसस: पति**  
 मौससरा 724 20  
**मौससरा**  
 मौससरा 724 20 ⇨  
**मौससरा: पत्नी**  
 मौसस 724 21  
**मौसा**  
 मौसा 722.45 ⇨  
**मौसा सत्तुर**  
 मौससरा 724 20  
**मौसिम**  
 मानसून 85 16  
**मौसिया**  
 मौसिया 722.51 ⇨  
**मौसिया सत्तुर**  
 मौससरा 724 20  
**मौसिया सास**  
 मौसस 724 21  
**मौसी**  
 मौसी 722.46 ⇨  
**मौसीकार**  
 संगीतज्ञ 457.3  
 संगीत निर्देशक 460 3  
**मौसीक्री**  
 संगीत 457 1  
**मौसी सास**  
 मौसस 724.21  
**मौसेरा [मौसेरी]**  
 मौसिया 722 51  
**म्बाजा (बांटे)**  
 बैजो 461.68  
**म्याऊँ**  
 म्याऊँ 298.26 ⇨  
**म्यान**  
 म्यान 924.12 ⇨  
**म्याना [म्यानी]**  
 मध्यम 978 6

मध्यम स्तरीय 313 18  
**म्यानी**  
 मियानी 612 5  
**म्यान्मा**  
 भास्त उपमहाद्वीप देश क्षेत्र सूची 27 6  
**म्यूज़ (अँ)**  
 कला देवी 397 2  
**म्यूज़िक (अँ)**  
 संगीत 457 1  
**म्यूज़िक डाइरेक्टर (अँ)**  
 संगीत निर्देशक 460 3  
**म्यूज़ियम (अँ)**  
 अजायब घर 669 16  
**म्यूज़िशियन (अँ)**  
 संगीतज्ञ 457 3  
**म्यूटेशन (अँ)**  
 उत्परिवर्तन 534 6  
**म्यूनिसिपैलिटी (अँ)**  
 नगर सभा 892 10  
**म्लान**  
 अप्रसन्न 381.10  
 उदास 380 14  
 मलिन 217 6  
 म्लान 120.11 ⇨  
**म्लानता**  
 उदासी 380 5  
 म्लानता 120 4 ⇨  
**म्लानन**  
 म्लानन 120 3 ⇨  
**म्लान न होना**  
 म्लान न होना 119.9 ⇨  
**म्लान होना**  
 म्लान होना 120.7 ⇨  
**म्लानि**  
 म्लानता 120 4  
**म्लेच्छ**  
 अनार्य जाति 732 4  
 अनार्य जातीय 732 15  
 तौबा 94 8  
 पापी 812 12  
 म्लेच्छ जाति 732 9  
 म्लेच्छ जातीय 732 19  
**म्लेच्छ कंद**  
 लहसुन 281 29  
**म्लेच्छ जाति**  
 म्लेच्छ जाति 732.9 ⇨  
**म्लेच्छ जातीय**  
 म्लेच्छ जातीय 732 19 ⇨  
**म्लेच्छ भोजन**  
 गेहूँ 187 8  
**म्लेच्छितक विकल्प**  
 चौंसठ कला सूची 397 4  
**म्हारा [म्हारी]**  
 हमारा [हमारी] 316 28

## य

**यंता**  
 गत्वरण कर्ता 1046 22  
 घालक 1048 24  
 महा अध्यक्ष 652 16  
 सचालक 655 16  
 सारथी 1079 10  
**यंत्र**  
 इजन 1078 1  
 ताला 609 24  
 नियंत्रण 899 10  
 यंत्र 558.10 ⇨  
 वाद्ययंत्र 461 11  
 वीणा 461 77  
 सिद्धिदायक यंत्र 758 13  
**यंत्र: अवयव**  
 यंत्र अवयव 558 18 ⇨  
**यंत्र आदि**  
 पूँजीगत उपस्कर 557 8  
**यंत्र: उपकरण**  
 उपकरण 558 7  
**यंत्रक**  
 मरम्मत कर्मी 538 9  
 वशीकरण कर्ता 758 23  
**यंत्र करंडिका**  
 बाजीगर पेटी 473 19  
**यंत्र धालन**  
 यंत्र धालन 1046 4 ⇨  
**यंत्र चालित**  
 यंत्र चालित 1046 27 ⇨  
**यंत्र चालित उद्दान**  
 यंत्र चालित उद्दान 1081 12 ⇨  
**यंत्र चालिततः**  
 यंत्र चालिततः 1046 33 ⇨  
**यंत्रण**  
 आबद्धन 1013 1  
 पुलिस कर्म 866 2  
 यंत्रण 391 14 ⇨  
 यंत्रीकरण 1046 5  
 व्यवस्थापना 893 7  
**यंत्रणा**  
 यंत्रणा 391 13 ⇨  
 शारीरिक पीडा 392 4  
**यंत्रणागार**  
 यंत्रणा गृह 391 16  
**यंत्रणा गृह**  
 यंत्रणा गृह 391.16 ⇨  
**यंत्रणा दाता**  
 यंत्रणा दाता 391.32 ⇨  
**यंत्रणा देना**  
 यंत्रणा देना 391.21 ⇨  
**यंत्रणाप्रद**  
 यंत्रणा दाता 391 32  
**यंत्रणा प्रदान**  
 यंत्रण 391 14  
**यंत्रणाप्रियता**  
 परपीडन 391 11

यंत्र तक्षक  
यत्र निर्माता 558 17  
यंत्र तक्षण  
यत्र निर्माण 558 16  
यंत्र तेल  
ओइलिंग तेल 538.6  
यंत्र ध्वंस  
तोड़फोड़ 539 4  
यंत्र नल  
ट्यूब वेल 19 15  
यंत्र निर्माण  
यत्र निर्माण 558 16 ⇌  
यंत्र निर्माता  
यत्र निर्माता 558.17 ⇌  
यंत्र नौका  
यत्र नौका 1072.10 ⇌  
यंत्र पुत्रक  
यत्र मानव 558 11  
यंत्र पुत्रिका  
यंत्रित कठपुतली 473 6  
यंत्र प्रवाह  
ट्यूब वेल 19 15  
यंत्र प्रेरित शस्त्र  
यत्र प्रेरित शस्त्र 922 5 ⇌  
यंत्र बाण  
यत्र प्रेरित शस्त्र 922 5  
यंत्र भाग  
यत्र अवयव 558 18  
यंत्र मंत्र  
गडा तावीज़ 759.4  
जादुई मंत्र 474 28  
यंत्र सिद्धि 758 10  
यंत्र मातृका  
चौसठ कला सूची 397 4  
यत्र निर्माण 558 16  
यंत्र मानव  
यत्र मानव 558.11 ⇌  
यंत्र मार्ग  
नहर 23 3  
यंत्र युग  
आधुनिक काल 76 9  
यंत्रयत्  
यत्रयत् 1046 32  
यंत्रयत्तः  
यत्रयत्तः 1046 32 ⇌  
यंत्र विकृत होना  
यत्र विकृत होना 536 5 ⇌  
यंत्र विकृति  
यत्र विकृति 536.2 ⇌  
यंत्र वेद  
वास्तु वेद 740.39  
यंत्र बेदी  
अभियांत्रिक 558 15  
यंत्र हार  
यत्र प्रेरित शस्त्र 922 5  
यंत्रशाला  
यत्रालय 558 12  
वेधशाला 1.7

यंत्र शास्त्र  
अभियांत्रिकी 558 14  
यंत्र शास्त्री  
अभियांत्रिक 558 15  
यंत्र संचालक  
इजान 1078 1  
यंत्र साधक  
यत्र साधक 758 12 ⇌  
यंत्र साधन  
तत्र किया 758 3  
यंत्र साधना  
यत्र साधना 758 11 ⇌  
यंत्र साधना करना  
यत्र साधना करना 758 35 ⇌  
यंत्र सिद्धि  
यत्र सिद्धि 758.10 ⇌  
यंत्र से चलना  
यत्र से चलना 1046.18 ⇌  
यंत्रादि गत्वरण  
गत्वरण 1046 1  
यंत्रालय  
यंत्रालय 558 12 ⇌  
यंत्रिणी  
छोटी साली 724 40  
यंत्रित  
आबद्ध 1013 22  
नियंत्रित 899 24  
प्रबंधित 655 23  
यंत्रीकृत 1046 28  
यंत्रित कठपुतली  
यंत्रित कठपुतली 473 6 ⇌  
यंत्री  
अनुशासक 893 16  
अभियांत्रिक 558 15  
कठपुतली वाला 473 7  
नियंत्रक 899 12  
यत्र निर्माता 558 11  
वादक 461 2  
व्यवस्थापक 893 14  
यंत्रीकरण  
यंत्रीकरण 1046.5 ⇌  
यंत्रीकृत  
यंत्रीकृत 1046 28 ⇌  
यंत्रीकृत खेत  
फार्म 551 2  
यंत्रीय  
यंत्रीय 558 23 ⇌  
यंत्रोपकरण  
यंत्रोपकरण 558 8 ⇌  
यक  
एक 948.17  
यकजादी  
सजातीय 730 21  
यकज़बान  
सर्वसहमत 337 21  
यकजा  
सम्मिश्रित 1008 26

यकजान  
सम्मिश्रित 1008 26  
यकतरफ़ा  
एकपक्षीय 885 29  
यकताई  
ईश्वर. अद्वैतता 764 5  
यकदिली  
घनिष्ठता 704 13  
यकपहलू  
एकपार्श्वीय 997 11  
यकफ़सली  
एक फ़सली वनस्पति 111.4  
यक बयक  
अकस्मात् 69 13  
यकबारगी  
अकस्मात् 69 13  
एकबारगी 634 38  
यकमंज़िला  
एकखंडीय 612 9  
यकमुरत  
एकबारगी 634 38  
यकरंग  
एकविध 310 9  
सम्मिश्रित 1008 26  
यकलाई  
एक पाट चादर 593 19  
यकलीता  
इकलीता बेटा 718 6  
यकलीता [यकलीती]  
एकमात्र 946 20  
यकशंभा  
रविवार 46 3  
यकसी  
समान 309.22  
यकसौधन  
सर्मानति 1026 2  
यकसार  
समतल 986.9  
यकसारियत  
समतलता 986 1  
यकसाला  
वार्षिक \*1 22  
यकसू  
समाधिस्थ 755.9  
यकसूई  
समाधिस्थता 755 4  
यकायक  
अकस्मात् 69.13  
यक्रीदा  
आस्था भाव 752 13  
यक्रीन  
विश्वास 340 1  
यक्रीनन  
अवश्यमेव 68 21  
संदेहहीनत 340 23  
यक्रीनी  
असंदिग्ध 340 19

यकृत  
यकृत 148.7 ⇌  
यकृतीय  
यकृतीय 148.15 ⇌  
यकका  
इक्का 1071 37  
यक्ष  
कुबेर 779.4  
देव योनि सूची 71. 37  
भूत 786 1  
यक्ष 779 1 ⇌  
यज्ञपति 753 4  
यज्ञ पुरोहित 753 10  
यक्षपुर  
कुबेर: नगर अलकापुरी 779.8  
यक्ष: माता  
ख़रा 787 13  
यक्ष रक्ष  
असुरादि जोड़ी सूची 783 4  
विपरीतता उपमान सूची 310 13  
शत्रुता. उपमान सूची 706 22  
यक्षराज  
कुबेर 779 4  
यक्ष विद्याधर आदि  
देव योनि 772 36  
यक्ष सूची  
यक्ष सूची 779.3 ⇌  
यक्ष स्त्री  
यक्ष स्त्री 779 2 ⇌  
यक्षायास  
बरगद 13 16  
यक्षिणी  
कुबेर पत्नी सूची 779 7  
यक्ष स्त्री 779 2  
यक्षिणी सूची  
यक्षिणी सूची 779 14 ⇌  
यक्षी  
यक्ष स्त्री 779.2  
यक्षेन्द्र  
कुबेर 779 4  
यक्षेश्वर  
कुबेर 779 4  
यक्ष्मा  
क्षय रोग 163.35  
यक्ष्मनी  
सूप 201.22  
यगण (ISS)  
वार्षिक गण सूची 452.43  
यगाना  
एकाकी 697 14  
यजंत  
यज्ञ पुरोहित 753 10  
शिथ 767.1  
यजत  
यज्ञपति 753 4  
यज्ञत्र  
यज्ञ पुरोहित 753.10

## यजन

### यजन

यजन 753.3 ⇌

### यजमान

गृहपति 235.5  
गृहस्थ 235.3  
दुकानदार 661.11  
प्रधान व्यक्ति 852.4  
बलि दाता 754.22  
भृति भर्ता 650.29  
यजमान 743.6 ⇌  
यज्ञपति 753.4  
शिव 767.1  
स्वामी 621.2

### यजमानक

बलि दाता 754.22

### यजमानता

यजमानत्व 743.5

### यजमानत्व

यजमानत्व 743.5 ⇌

### यजमानः पत्नी

यजमान पत्नी 743.7 ⇌

### यजमानी

पुरोहित कर्म 744.10  
यजमानत्व 743.5

### यजी

यज्ञपति 753.4  
यज्ञ पुरोहित 753.10

### यजुः भृति

यजुर्वेद 740.31

### यजु

यजु मंत्र 741.9

### यजु मंत्र

यजु मंत्र 741.9 ⇌

### यजुर्वेद

चार वेद सूची 740.28  
तीन वेद सूची 740.28  
यजुर्वेद 740.31 ⇌

### यजुर्वेदः उपवेद

धनुर्वेद 740.38

### यजुर्वेदज्ञ

अध्ययु 753.12

### यजुर्वेद मंत्र

यजुर्वेद मंत्र 741.6 ⇌

### यजुर्वेदः यज्ञ मंत्र

याज मंत्र 741.10

### यजुष्यात्र

यज्ञ भाड 753.22

### यज्ञ

अभियान 907.24  
कार्य 508.1  
पूजा 751.1  
यज्ञ 753.1 ⇌  
विष्णु चौबीस अवतार सूची 769.9  
समारोह 694.15

### यज्ञ अनुष्ठान

यजन 753.3

### यज्ञ उपकरण

यज्ञ उपकरण 753.21 ⇌

### यज्ञ करना

यज्ञ करना 753.30 ⇌

### यज्ञ कर्ता

यज्ञपति 753.4  
यज्ञ पुरोहित 753.10

### यज्ञ कर्म

यजन 753.3

### यज्ञकल्प

विष्णु 768.1

### यज्ञ काष्ठ

समिधा 753.29

### यज्ञ कुंड

यज्ञ वेदी 753.24  
विवाह वेदी 802.30

### यज्ञघ्न

असुर दानव दैत्य राक्षस 783.2  
राक्षस 784.1

### यज्ञ घमस

यज्ञ घमस 753.23 ⇌

### यज्ञ तुरंग

अश्वमेघ घोड़ा 754.14

### यज्ञ त्राता

विष्णु 768.1

### यज्ञ द्रव्य

यज्ञ सामग्री 753.25

### यज्ञ देवी

असुर दानव दैत्य राक्षस 783.2  
राक्षस 784.1

### यज्ञधर

विष्णु 768.1

### यज्ञ नेमि

कृष्ण 771.1

### यज्ञपति

यजमान 743.6  
यज्ञपति 753.4 ⇌  
विष्णु 768.1

### यज्ञपत्नी

यजमान पत्नी 743.7

### यज्ञ पशु

बलि पशु 754.10

### यज्ञ पात्र

यज्ञ भाड 753.22

### यज्ञ पुरोहित

यज्ञ पुरोहित 753.10 ⇌

### यज्ञ बलि

बलि वस्तु 754.2

### यज्ञ भांड

यज्ञ भाड 753.22 ⇌

### यज्ञभू

यज्ञ स्थान 753.17

### यज्ञ भूषण

कुरा घास 11.8

### यज्ञ भोजी

देवता 772.1

### यज्ञ मंत्र

मंत्र सूची 741.4  
याज मंत्र 741.10

### यज्ञ मांस

यज्ञ मांस 206.15 ⇌

### यज्ञमान

यज्ञपति 753.4

### यज्ञ यूप

यज्ञ स्तम्भ 753.19

### यज्ञ योग्य

यज्ञोपयुक्त 753.33

### यज्ञरेता

सोमरस 210.5

### यज्ञ वराह

वराह अवतार 769.34

### यज्ञयत्क

ऋषि मुनि सूची 789.17

### यज्ञयाहन

ब्राह्मण 731.13  
शिव 767.1

### यज्ञ वाही

यज्ञ पुरोहित 753.10

### यज्ञ वेदी

यज्ञ वेदी 753.24 ⇌

### यज्ञ शाला

यज्ञ शाला 753.18 ⇌

### यज्ञ भुजा

यज्ञ चमस 753.23

### यज्ञ संभार

यज्ञ सामग्री 753.25

### यज्ञ सदन

यज्ञ स्थान 753.17

### यज्ञ सामग्री

यज्ञ सामग्री 753.25 ⇌

### यज्ञ सूची

यज्ञ सूची 753.2 ⇌

### यज्ञ सूत्र

यज्ञोपवीत 798.22

### यज्ञसेन

दुपद 771.62

### यज्ञ

विष्णु 768.1

### यज्ञ स्तम्भ

यज्ञ स्तम्भ 753.19 ⇌

### यज्ञ स्तम्भ स्थान

यज्ञ स्तम्भ स्थान 753.20 ⇌

### यज्ञ स्थली

यज्ञ स्थान 753.17

### यज्ञ स्थान

यज्ञ स्थान 753.17 ⇌

### यज्ञहा

शिव 767.1

### यज्ञ होता

यज्ञ होता 753.16 ⇌

### यज्ञांग

यज्ञ सामग्री 753.25

### यज्ञाग्नि

उत्सवाग्नि 106.2

यज्ञाग्नि 106.4 ⇌

### यज्ञाग्नि सूची

यज्ञाग्नि सूची 106.5 ⇌

### यज्ञाग्निः स्थान परिवर्तन

समारोहण 753.9

### यज्ञानुष्ठान

यजन 753.3

### यज्ञात्र

हव्यात्र 753.26

### यज्ञारि

अहिर्मन 785.3  
राक्षस 784.1  
शिव 767.1

### यज्ञाहुति

आहुति द्रव्य 753.27

### यज्ञिय

देवता 772.1  
द्वापर युग 40.14  
यज्ञीय 753.32  
यज्ञोपयुक्त 753.33

### यज्ञी

विष्णु 768.1

### यज्ञीय

यज्ञीय 753.32 ⇌

### यज्ञोत्तर यजुर्वेद मंत्र

यजुर्वेद मंत्र 741.6

### यज्ञोश

सूर्य 8.1

### यज्ञोश्वर

विष्णु 768.1

### यज्ञोपकरण

यज्ञ उपकरण 753.21

### यज्ञोपयुक्त

यज्ञोपयुक्त 753.33 ⇌

### यज्ञोपवीत

उपनयन संस्कार 798.20  
यज्ञोपवीत 798.22 ⇌  
षोडशोपचार सूची 750.4

### यज्ञोपवीत धारी

यज्ञोपवीत धारी 798.46 ⇌

### यज्ञोपवीत संस्कार

ब्रह्मचर्य प्रवेश 234.8

### यज्य

पूजनीय 751.24

यज्ञ 753.1

### यज्यु

यज्ञपति 753.4

### यज्या

यज्ञ पुरोहित 753.10

### यत

नियत 68.16  
प्रयत्नित 489.8  
सयमी 808.17

### यतता

नियतता 68.8

### यतन

कूट युक्ति 819.8

परिश्रम 493.1

### यतमना

स्थिरचित्त 355.6

**यथात्मना**  
सयमी 808 17  
स्थिरचित्त 355 6

**यति**  
अवरोध 1047 8  
ऋषि मुनि 789 1  
छद यति 452 36  
जितेन्द्रिय 364 14  
प्रयत्नशील 489 9  
यति 790 8  
योगी 756 3  
श्वेतांबर साधु 790 26  
सयमी 808 17

**यतित**  
प्रयत्नित 489 8

**यति तपी**  
ऋषि मुनि 789 1

**यतित्व**  
जितेन्द्रियता 364 5

**यति धर्म**  
इन्द्रिय निग्रह 364 4  
सन्ध्यास आश्रम 233 6

**यतिनी**  
विधवा 804 15  
सन्ध्यासिनी 790 12

**यति पात्र**  
कमठलु 642 13

**यती**  
अनासक्त 366 5  
यति 790 8

**यतीम**  
अनाथ 719 5

**यतीम श्राना**  
अनाथाश्रम 601 10

**यत्**  
जो 316 8

**यत्किंचित**  
अपर्याप्त 442 17  
जो 316 8

**यत्**  
प्रयत्नित 489 8

**यत्न**  
उपाय 517 3  
परिश्रम 493 1  
प्रयत्न 489 1

**यत्नशील**  
प्रयत्नशील 489 9

**यत्नहीन**  
अप्रयत्नशील 490 9

**यत्नित**  
प्रयत्नित 489 8

**यत्र**  
जहाँ 30 3

**यत्र तत्र**  
चतुर्दिशत 29 36

**यन्तु**  
हँसती 133 11

**यथा**  
अनुसार 514 26  
जैसे 514 21  
सदृश्य 309 20  
सादृश्य उक्ति सूची 309 26

**यथाकथित**  
आज्ञानुसारत 347 22

**यथाकाम**  
इच्छानुसार 359 22  
प्रत्याशित 941 8

**यथाकामना**  
प्रत्याशित 941 8

**यथाकामी**  
स्वेच्छाचारी 809 7

**यथाकाम्य**  
आवश्यकतानुकूल 524 22  
पर्याप्त 941 6  
प्रत्याशित 941 8

**यथाकाल**  
अवसरानुकूल 70 14  
समयानुसार 61 5

**यथाक्रम**  
क्रमशः 991 28  
क्रमिक 991 21  
क्रमिक 931 21  
व्यवस्थित 893 13

**यथाक्रमता**  
क्रमिकता 991 2

**यथाक्षमता**  
यथाक्षमता 481 32

**यथाज्ञा**  
आज्ञानुसारत 347 22

**यथातथ**  
तथ्यात्मक 820 24

**यथातथ्यता**  
तथ्यात्मकता 820 15

**यथादिश**  
अनुदिशत 1098 23

**यथादेश**  
अनुदिशत 1098 29  
आज्ञानुसारत 347 22

**यथा नाम तथा गुण**  
प्रतिष्ठानुकूल 849 17

**यथानियम**  
नियमानुकूल 879 18  
नियमितत 71 23  
विधि संगत 514 14

**यथानिर्दिष्ट**  
आज्ञानुसारत 347 22

**यथानुपूर्व**  
पारंपरिक 795 13

**यथान्याय**  
न्यायपूर्वक 874 39

**यथापूर्व**  
यथापूर्व 533 13

**यथापूर्वतः**  
यथापूर्वत 533 17

**यथापूर्वता**  
यथापूर्वता 533 5

**यथाप्रथा**  
प्रधानुसारत 795 18

**यथाभिप्रेत**  
इच्छानुसार 359 22

**यथाभीष्ट**  
आवश्यकतानुकूल 524 22  
इच्छानुसार 359 22

**यथामार्ग**  
अनुमार्गत 1098 28

**यथायथ**  
पर्याप्त 941 6

**यथायोग्य**  
आवश्यकतानुकूल 524 22  
पर्याप्त 941 6

**यथारीति**  
प्रधानुसारत 795 18

**यथार्थ**  
घटनामूलक 75 10  
चरितार्थ 438 8  
वास्तविक 820 23  
व्यावहारिक 828 9  
सत्य 820 1  
सत्यतापूर्ण 820 20

**यथार्थ असिद्धता**  
अचरितार्थता 439 8

**यथार्थ ज्ञान**  
यथार्थ ज्ञान 761 8  
व्यवहार कुशलता 828 3

**यथार्थतः**  
सत्यत 820 25

**यथार्थता**  
वास्तविकता 820 13  
व्यावहारिकता 828 2  
सत्यता 820 2

**यथार्थयाद**  
अभावुकता 358 18

**यथार्थ सिद्ध**  
चरितार्थ 438 8

**यथार्थ सिद्ध न होना**  
चरितार्थ न होना 439 4

**यथार्थ सिद्ध होना**  
चरितार्थ होना 438 5

**यथायत**  
यथापूर्व 533 13

**यथायत्ना**  
यथापूर्वता 533 5

**यथावश्यक**  
आवश्यकतानुकूल 524 22  
पर्याप्त 941 6

**यथावश्यकता**  
पर्याप्तता 941 1

**यथायाचित**  
इच्छानुसार 359 22  
पर्याप्त 941 6  
प्रत्याशित 941 8

**यथायाचिततः**  
प्रत्याशितत 941 12

**यथाविधि**  
प्रधानुसारत 795 18

**यथाविधि**  
विधि संगत 514 14

**यथाविधि गायन**  
संगीत वर्ण 459 23

**यथाविहित**  
शास्त्र संगत 318 7

**यथाराक्ति**  
यथाक्षमता 487 32

**यथाशा**  
प्रत्याशित 941 8

**यथासंभव**  
यथाक्षमता 487 32

**यथासमय**  
उपयुक्त अवसर पर 70 16  
समयानुसार 61 5  
समयानुसारत 61 7

**यथासमयता**  
समयानुसारता 61 1

**यथासाध्य**  
यथाक्षमता 487 32

**यथास्थान**  
व्यवस्थित 893 13

**यथास्थिति**  
यथापूर्वता 533 5

**यथास्थितिवाद**  
प्रतिक्रियावाद 884 17

**यथास्थिति वादी**  
यथास्थिति वादी 343 25

**यथेच्छ**  
आवश्यकतानुकूल 524 22  
इच्छानुसार 359 22  
प्रत्याशित 941 8

**यथेच्छता**  
प्रत्याशानुकूलता 941 3

**यथेच्छाचार**  
स्वेच्छाचार 809 1

**यथेच्छाचारी**  
स्वेच्छाचारी 809 7

**यथेष्ट**  
आवश्यकतानुकूल 524 22  
इच्छानुसार 359 22  
पर्याप्त 941 6

**यथेष्टता**  
पर्याप्तता 941 1

**यथोक्त**  
आज्ञानुसारत 347 22

**यथोचित**  
आवश्यकतानुकूल 524 22  
पर्याप्त 941 6  
संगत 438 6

**यदा**  
जब 36 26  
यदि 507 12

## यदा कदा

### यदा कदा

कभी कभी 36.25  
यदा...जदा  
कारण कार्यः उक्ति सूची 507.20  
यदा तदा  
कभी कभी 36.25  
यदापि  
यद्यपि 507.14  
यदा यदा  
जब जब 36.27  
यदि  
आपत्ति 326.4  
परतुकतः 339 50  
यदि 507.12 ⇨  
यदि ऐसा हो...तो  
कारण कार्यः उक्ति सूची 507 20  
यदि...तो  
कारण कार्यः उक्ति सूची 507 20  
यदुनाथ  
कृष्ण 771.1  
यदुराज  
कृष्ण 771 1  
यदु वंश  
यादव 771 30  
यदुवीर  
कृष्ण 771 1  
यदृच्छया  
संयोगवशा 69.12  
यदृच्छा  
संयोग 69 1  
स्वेच्छापूर्णता 650.6  
स्वेच्छित कर्म 650 7  
यद्यपि  
यद्यपि 507.14 ⇨  
यदा तदा  
किंतु परंतु 507.17  
जैसे कैसे 514 22  
बहानेबाजी 495.5  
यम  
इंद्रिय निग्रह 364 4  
कर्मसाक्षी देवता सूची 772 18  
चीदहः उपमान सूची 948 47  
दमन 911 4  
नियंत्रक 899.12  
नियंत्रण 899 10  
यमराज 256 1  
योगांग सूची 756 14  
लोकपाल सूची 780 7  
विधि (क्रानून) 878.1  
संयम 808 8  
यमक  
दुगुना 949.43  
यमः कायस्थ  
धित्रगुप्त 256 6  
यम कीट  
घुन 122.19  
यम ग्रह  
कुबेर ग्रह 7 13  
1448

### यमज

अश्विनी कुमार 773.3  
यमज 723 26 ⇨  
यमज [यमजा]  
यमज 723.26  
यमजता  
यमजता 723.15 ⇨  
यम जन्म  
यमजता 723 15  
यमजयी  
मृत्यु विजेता 250 17  
यमज संतान  
यमज संतान 723.16 ⇨  
यमदूत  
कोआ 126 22  
यमदूत 256 8 ⇨  
यम देव  
यमराज 256.1  
यम द्वितीया  
भाई दूज 57 17  
यमधर  
दुधारा [दुधारी] 997 13  
यमधार  
दुधारा [दुधारी] 997 13  
यमन  
नियंत्रण कर्म 899 11  
पाश 1013 8  
यवन जाति 732 10  
यवन जातीय 732 20  
राग रागिनी सूची 457 24  
शासन कर्म 890 3  
यमनकी  
याकूत 96 24  
यम नगर  
यम नगर 256 5 ⇨  
यमना  
यमुना 20 18  
यमनाथ  
धर्म 773 32  
यमनी  
माणिक 96 22  
याकूत 96.24  
यमपाश  
यमपाश 256.2 ⇨  
यमपुर  
यमलोक 256 3  
यमपुरी  
यमलोक 256 3  
यमप्रिय  
बरगद 13.16  
यमः बहन  
कालरात्रि 774.24  
यममार्ग  
आकाश गंगा 1.14  
यमराज  
यमराज 256.1 ⇨  
यमराज (दे.)  
पितृ राज 253 27

### यमल

जोड़ी 687 3  
दो उपमान सूची 948 20  
यमज 723 26  
यमलोक  
यमलोक 256.3 ⇨  
यमलोकः नदी  
वैतरणी 256 4  
यम वाहन  
नर भैस 127 20  
यमांतक  
शिय 767 1  
यमानी  
अजवायन 281 7  
यमानुजा  
यमुना 20 18  
यमारि  
विष्णु 768 1  
यमित  
दमित 911 14  
सयमित 808 16  
यमी  
यमी 774 75 ⇨  
यमुना 20 18  
सयमी 808 17  
यमुन  
यमुना 20 18  
यमुना  
दुर्गा 776 1  
भारत उपमहाद्वीप नदी सूची 20 7  
यमुना 774.76 ⇨  
यमुना 20.18 ⇨  
यमुना (दे.)  
यमुना 774 76  
यमुना जनक  
सूर्य 8 1  
यमेश्वर  
शिय 767.1  
यव  
जौ 187 15  
हस्त चिह्न सूची 261 38  
यवः 2.5  
रत्ती 962 53  
यवक्षार  
जवाखार 87 13  
यवज  
गोहूँ 187 8  
यवन  
काल यवन 771 48  
गोहूँ 187 8  
मुसलिम 736.2  
यवन जाति 732.10  
यवन जातीय 732.20  
यवन जाति  
यवन जाति 732.10 ⇨  
यवन जातीय  
यवन जातीय 732.20 ⇨

### यवनप्रिय

काली मिर्च 278.4  
यवनारि  
कृष्ण 771.1  
यवननाल  
जुआर 187 14  
यवनालज  
जवाखार 87 13  
यवनिका  
यवनिका 606 1 ⇨  
यवनिका उत्थान  
यवनिका उत्थान 606 2 ⇨  
यवनिका पात  
नाट्य अत सूची 468 25  
यवनिका पात 606 3 ⇨  
यवनेष्ट  
गाजर 189 14  
नीम 13 12  
प्याज 281 24  
शल्लगम 189 35  
सीसा 94 14  
यव मद्य  
जौ मद्य 209 8  
यवस  
डल भूसा 114 5  
यवागू  
मौड़ 208 17  
यवाग्रज  
जवाखार 87 13  
यवानी  
अजवायन 281 7  
यविका  
जई 187 13  
यविष्ट  
अग्नि 106 1  
सब से छोटा भाई 723 13  
यवोद्भव  
जवाखार 87 13  
यव्या  
जौ मद्य 209 8  
यश  
ईश्वर विभूति सूची 764 4  
ख्याति 847 1  
यशकाम  
ख्याति इच्छुक 847 5  
यशागाथा  
प्रशंसा गाथा 841 7  
मरसिया 452.24  
यशद  
ख्यातिप्रद 847.6  
जस्ता 94 5  
यशवीकरण  
गैल्वनीकरण 292 7  
यशप्रद  
ख्यातिप्रद 847 6  
यशब  
यशब 96.23 ⇨  
रत्न सूची 96 5

यशवंत [यशवंती]	यह नहीं है	संवेग 1042 10	पुरोहित 744.11
ख्यात 847.3	नेति 741.26	याकृत	यजमान 743.6
यशवान [यशवती]	यह लोक वह लोक	याकृत 96.24 ⇨	यज्ञपति 753.4
ख्यात 847.3	दो लोक 258.2	रत्न सूची 96.5	यज्ञ पुरोहित 753.10
यशस्कर	यह वह	याकृत	यज्ञीय 753.32
ख्यातिप्रद 847 6	विधि सामग्री 66.3 4	यकृतीय 148 15	याज्ञिय
यशहीन	यह सब	याग	यज्ञीय 753.32
अख्यात 848 5	ब्रह्मांड 1 1	आहुति द्रव्य 753.27	याज्य
यशी	यहाँ	याचक	बलि वस्तु 754.2
ख्यात 847 3	इधर 30 6	मिक्षुक 642.5	यज्ञीय 753.32
यशोकाम	निकट मे 31 9	याचक 642 19 ⇨	याट (अँ)
ख्याति इच्छुक 847 5	यहाँ 30 5 ⇨	याचक वृत्ति	नीका सूची 1072.3
यशोगान	सीमा के इस ओर 1001 45	भिक्षा वृत्ति 642 4	याड़ी
प्रशसा गायन 841 10	यहाँ नहीं	याचना	पुरुष मित्र 705.2
यशोद	अन्यत्र 30 9	प्रार्थना 350 4	यात
पारा 94 9	यही पर	याचना 642 1 ⇨	गत 1091.8
यशोद [यशोदा]	इधर 30.6	याचना करना	मार्च 1083.11
ख्यातिप्रद 847 6	यहाँ वहाँ	याचना करना 642 14 ⇨	यातना
यशोदा	कमहीनत 992 7	याचना पर	यंत्रणा 391 13
कृष्ण पालक माता 771 9	चतुर्दिशत 29 36	याचितत 642 22	शारीरिक पीडा 392 4
यशोदा 771 79 ⇨	यहि	याधिका	यातनागार
यशोदा नंदन	यह 316.11	प्रार्थना पत्र 350.5	यत्रणा गृह 391 18
कृष्ण 771 1	यहिया	याधिका 875.15 ⇨	यातयाग
बालकृष्ण 771 4	पैगंबर सूची 791 2	याधिका लेखक	बासी 197 45
यशोधन	यहिया 791 25 ⇨	याधिका लेखक 874 31 ⇨	याता
ख्यात 847 3	यहीं	याधित	गता 1091 9
शिव 767.1	निकट मे 31 9	प्राधित 350 17	जेठानी 724.31
यशोधर [यशोधरा]	यही	याधित 642 18 ⇨	देवरानी 724 29
ख्यात 847 3	अनेतर 945 6	याधिततः	सारथी 1079.10
यशोधरा	यहूद वंश उद्धारक	याधितत 642 22 ⇨	यातायात
बुद्ध पत्नी 793 9	मूसा 791.23	याधिता	यातायात 1067.1 ⇨
यशोमती	यहूदी [यहूदिन]	मिक्षुक 642 5	यातायात धिह्न
यशोदा 771.79	यहूदी धर्मावलंबी 736.25	याधिष्णु	यातायात धिह्न 1067.9 ⇨
यशोमाधय	यहूदी धर्म	प्रार्थ 350 18	यातायात नियंत्रण
विष्णु 768 1	यहूदी धर्म 736.24 ⇨	याधी	यातायात नियंत्रण 1067.2 ⇨
यष्टि	यहूदी धर्माधिकारी	प्रार्थी 350 18	यातायात लेन
डंडी 923.7	यहूदी धर्माधिकारी 744 45 ⇨	याजक	यातायात लेन 1067.3 ⇨
प्रशाखा 114 11	यहूदी धर्मावलंबी	यज्ञपति 753 4	यातायात विभाग
लता 111.17	यहूदी धर्मावलंबी 736 25 ⇨	यज्ञ पुरोहित 753 10	यातायात विभाग 1067.8 ⇨
लाठी 923 9	यहूदी पूजा स्थल	याजनिक	यातायात संकेत
यष्टिका	यहूदी पूजा स्थल 745.27 ⇨	पुरोहित 744.11	यातायात संकेत 1067.12 ⇨
लाठी 923.9	यहूदी राज	यज्ञ पुरोहित 753.10	यातु
यष्टि धनु	ईसा 791 8	याज मंत्र	वायु 85 1
मुलेठी 281.27	यहूदी विरोध	याज मंत्र 741.10 ⇨	यातुप्ल
यष्टी	नात्सीवाद 884 34	याजी	गुग्गुल 274.18
मुलेठी 281.27	यौ	यज्ञपति 753 4	यातुधान
यस (अँ)	यहाँ 30 5	यज्ञ पुरोहित 753.10	पिराच 786.8
हाँ 337.29	याधा	याज्ञ	भूत 786.1
यसार	याचना 642 1	यज्ञीय 753.32	राक्षस 784.1
बायों हाथ 149 4	यात्रिक	याज्ञवल्क्य	यातुधाना
यस्क	अभियात्रिक 558 15	ऋषि मुनि सूची 789.17	राक्षस स्त्री 784.2
ऋषि मुनि सूची 789.17	यंत्र घालित 1046 27	याज्ञवल्क्य स्मृति	यातुधानी
यह	यंत्रीय 558.23	याज्ञवल्क्य स्मृति 740.57 ⇨	राक्षस स्त्री 784.2
इतना [इतनी] 946.12	यात्रिकी	याज्ञसेनी	यात्रांत
यह 316.11 ⇨	अभियात्रिकी 558 14	द्वीपदी 771.64	गत्य प्राप्ति 1100.3
यह काल	वास्तु वेद 740.39	यात्रिक	यात्रा
वर्तमान काल 36.13	या	पलारा 13.13	उत्सव 56.1
	यह 316.11	पीपल 13.14	जात्रा 463.20

## यात्रा आहार

ट्रिप 1087 11  
तीर्थ यात्रा 1089 1  
यात्रा 1087.1 ⇨  
यात्रा आहार  
यात्रा आहार 199.6 ⇨  
यात्रा कार्यक्रम  
यात्रा कार्यक्रम 1087 13 ⇨  
यात्रा क्रम  
यात्रा कार्यक्रम 1087 13  
यात्रा बलाल  
ट्रेवल एजेंट 1090 16  
यात्रा: पंढा  
पंढा 744 4  
यात्रापत्र सूची  
यात्रापत्र सूची 1087 37 ⇨  
यात्रा पथ  
यात्रा मार्ग 1087 26  
यात्रा भत्ता  
यात्रा भत्ता 643 39 ⇨  
यात्रा भाड़ा  
यात्रा भाड़ा 622 13 ⇨  
यात्रा मार्ग  
यात्रा मार्ग 1087 26 ⇨  
यात्रा योग्य  
जलगम्य 1080 47  
यात्रा योग्यता  
जलयान जलगम्यता 1080 29  
यात्रा योजना  
यात्रा मार्ग 1087 26  
यात्रारंभ विचार  
दिशा विचार 262 12  
यात्रा लेख  
यात्रा वर्णन 1087 29  
यात्रा वर्णन  
यात्रा वर्णन 1087 29 ⇨  
यात्रावाला  
पंढा 744.4  
यात्रा विचार  
दिशा विचार 262.12  
यात्रा विवरण  
यात्रा वर्णन 1087 29  
यात्रा वृत्तान्त  
यात्रा वर्णन 1087 29  
यात्रा व्यय  
यात्रा व्यय 1087 14 ⇨  
यात्राशील  
पर्यटनशील 1090 45  
यात्रा संयोजक  
ट्रेवल एजेंसी 1090 15  
यात्रा सामग्री  
असबाब 1087 31  
यात्रा सामग्री 1087.30 ⇨  
यात्रा: सामान  
असबाब 1087 31  
यात्रा साहित्य  
यात्रा साहित्य 1087.25 ⇨  
यात्रिक  
तीर्थ यात्री 1089 2

यात्रा व्यय 1087 14  
यात्री 1087 2  
यात्रिक व्यापार  
यात्रिक व्यापार 657 11 ⇨  
यात्री  
आरोही 1082 2  
तीर्थ यात्री 1089 2  
दर्शनार्थी 749 38  
पर्यटक 1090 7  
प्रवासी 618 29  
यात्री 1087.2 ⇨  
यात्री कक्ष  
यान कक्ष 1076 7  
यात्री को लुटना  
बटमारी करना 864 50  
यात्री दल  
यात्री दल 1088 5 ⇨  
सार्थ 657 13  
यात्री निवास  
यात्री निवास 1090 23 ⇨  
यात्री पोत  
यात्री पोत 1072.41 ⇨  
यात्री बंगला  
टूरिस्ट बैंगलो 1090 21  
यात्री यान  
रेलगाड़ी डिब्बा 1076 4  
सवारी यान 1071 17  
यात्री विमान  
यात्री विमान 1074.13 ⇨  
यात्री: सामान  
असबाब 1087 31  
याद  
अविस्मरण 356 6  
अविस्मृत 356 19  
वियोग दुःख 388 4  
स्मृत 356 17  
स्मृति 356 1  
याद आया  
सदर्मवश 437 17  
यादआयरी  
अभिज्ञान 356 11  
कुशल प्रश्न 710 7  
स्मृति लाभ 356 10  
याद करना  
कुशल क्षेम पूछना 710.16  
रटना 356 14  
स्मरण करना 356 12  
यादगार  
अविस्मरणीय 356 20  
संग्रहणीय 669.20  
स्मारक 255 1  
याददास्त  
स्मृति 356.1  
स्मृतिधरता 356 3  
याद विलाना  
स्मरण कराना 356 15  
याद दिहानी  
स्मारण 356 8

याद न रखना  
विस्मरण करना 357 7  
याद न होना  
स्मृत न होना 357 6  
याद फ़रामोश  
विस्मरणशील 357 13  
याद रखना  
न भूलना 356 13  
याद रखने वाला  
अविस्मरणशील 356 21  
यादध  
कृष्ण 771 1  
गाय भैस 127 9  
गोप 771 31  
यादव 771 30 ⇨  
यादव वंश नाशक  
बलराम मूसल 771 75  
यादयी  
दुर्गा 776 7  
यादसांपति  
वरुण 773 43  
समुद्र 24 1  
यादायरी  
स्मृति लाभ 356 10  
यादु  
जल 88 1  
तरल पदार्थ 79 5  
यादूक्ष  
जैसा 317 32  
यादूच्छिक  
आकस्मिक 69 10  
यादूश  
जैसा 317 32  
सदृश्य 309 20  
यादे  
सस्मरण 356 7  
यान  
अभियान 907 24  
आक्रमण 914 3  
खोज यात्रा 336 7  
गमन 1091 1  
जैन 737 16  
यान 1070 1 ⇨  
रेलगाड़ी डिब्बा 1076 4  
यान (बीद्द)  
दार्शनिक प्रणाली 760 4  
धर्म 735 1  
यान अवतारण  
यान अवतारण 1080.8 ⇨  
यान आरूढ़  
यान आरूढ़ 1082 31 ⇨  
यान आरोहण  
यान आरोहण 1082.16 ⇨  
यान आसन  
यान आसन 595 43 ⇨  
यान सीट 1076 16  
यान कक्ष  
यान कक्ष 1076 7 ⇨

यानघर  
यानारोही 1082 17  
यान घालक  
यान घालक 1079.23 ⇨  
यान घालन  
यान घालन 1079.2 ⇨  
यान जुताई  
यान जुताई 1079 1 ⇨  
यान पशु  
जोत पशु 127 6  
यान प्रस्थान  
यान प्रस्थान 1082.24 ⇨  
यान प्रस्थान करना  
यान प्रस्थान करना 1082 26 ⇨  
यान बैठका  
यान बैठका 1076 15 ⇨  
यान बैठना: स्थान  
यान बैठका 1076 15  
यान मार्ग  
रथ मार्ग 1063 13  
यान यात्री  
यानारोही 1082 17  
यानवाही  
जोत पशु 127 6  
यान शरीर  
यान शरीर 1076 1 ⇨  
यान शाला  
यान शाला 1069.25 ⇨  
यानशाला  
यान शाला 1069 25  
यान समूह  
फ़्लूट 932 21  
यान समूह 1088 6 ⇨  
यान सीट  
यान सीट 1076 16 ⇨  
यान से उतारना  
उत्सारण करना 1059 25  
यान स्थल  
परिवहन स्थल 1069 1  
यानहीन  
यानहीन 1082.33 ⇨  
यानारूढ़  
यान आरूढ़ 1082 31  
यानारोही  
यानारोही 1082 17 ⇨  
यानावतारण  
यान अवतारण 1080 8  
यानी  
अर्थात् 426 41  
यानीय  
धर्मीय 735.11  
याने  
अर्थात् 426 41  
यानेतर कार्य  
यानेतर कार्य 1081.43 ⇨  
यानेतर विचरण  
यानेतर कार्य 1081.43



**यापन**  
आजीविका 650 1  
परस्पर निर्वाह 702 3

**यापित**  
व्यतीत 74 3

**याम**  
काल 36 1  
नियंत्रण कर्म 899 11  
पहर 49 1

**यामकिनी**  
पुत्र वधू 724 24

**यामघोष**  
घटा वादक 461 28  
समय घोष 50 1

**यामघोषा**  
घड़ी 50 16

**यामल**  
यमज 723 26

**यामवली**  
रात 48 1

**यामा**  
रात 48 1

**यामाता**  
दामाद 724 22

**यामि**  
यामि 787 18 ⇌

**यामिनी**  
रात 48 1

**यामिनीघर**  
रात्रिचर 48 14

**यामी**  
कुलीन स्त्री 728 7  
दक्षिण 29 10  
पुत्र वधू 724 24  
पुत्री 718 10  
बहन 723 6  
रात 48 1

**यामेय**  
भानजा 722 43

**याम्य**  
दक्षिणी 29 31  
यमदूत 256 8

**याम्य गोल**  
दक्षिणी भूगोलार्ध 10 6

**याम्य ध्रुव तारा**  
दक्षिण ध्रुव तारा 3 13

**याम्या**  
रात 48.1

**याम्यायन**  
दक्षिणायन 5 18

**याम्योत्तर विंगरा**  
देशाश 10 14

**यायावर**  
अश्वमेध. घोड़ा 754.14  
खानाबदोश 1090 44  
पर्यटनप्रिय 1090 41  
फेरी वाला 661.14  
संन्यासी 790.11

**यायावरता**  
पर्यटन प्रियता 1090 1

**यायावर संपादक**  
संपादक सूची 445 16

**यायावरी**  
खानाबदोशी 1090 5  
पर्यटन प्रियता 1090 1

**यायी**  
गता 1091 9

**यार**  
जार 806 5  
पुरुष मित्र 705 2  
प्रेमी 368 2  
सहायता दाता 700 25

**यारबाश**  
मिलनसार 696 24

**यारबाशी**  
मिलनसारिता 696 8

**याराना**  
धनिष्ठता 704 13  
मित्रता 705 1  
रोमास 368 9  
विवाह अनिष्टा 806 1

**यारी**  
घनिष्ठता 704 13  
प्रेम 368 1  
मित्रता 705 1  
रोमास 368 9  
विवाह अनिष्टा 806 1

**यारो का यार**  
मित्र बत्सल 705 27

**यारो की यारी**  
मित्र बत्सलता 705 17

**यार्ड (अँ)**  
मस्तूल अड़डडा 1073 14  
रेलवे यार्ड 1069 30

**यायज्जीघन**  
आयु पर्यत 729 28

**यायत्-**  
अवधि मे 39 11

**यायत् चंद्र दिवाकरी**  
दीर्घ काल तक 37 11

**यायन**  
लोभान 274 27

**यायनक**  
शिलाजीत 84 12

**यायर**  
जार 806 5

**यावि होत्र**  
यज्ञ 753 1

**याष्टीक**  
लाठीधारी 930 17

**यासमीन**  
घमेली 14 16

**यास्क**  
ऋषि मुनि सूची 789 17

**याहि**  
इसे 316 33

**याह्या**  
यहिया 791 25

**यीशु**  
ईसा 791 8  
मसीहा 791 3

**यीशु माता**  
मरियम 791 19

**युंजान**  
सिद्ध साधु 790 30

**युक**  
जुड़ा [जुड़ी] 954 13  
संगत 438 6  
सयुक्त 1010 22  
सम्बद्ध 491 16  
सहित 1006 2

**-युक**  
सहित प्रत्यय सूची 1006 5

**युक्तक (प्र)**  
योगिक 1008 10

**युक्तः**  
सलमल 1010 26  
सहितत 1006 3

**युक्ता**  
संगतता 438 1  
सटापन 31 2  
सहितता 1006 1

**युक्तमना**  
ध्यानमग्न 331 11

**युक्ताक्षर**  
सयुक्त अक्षर 410 5

**युक्तात्मा**  
योगी 756 3

**युक्तार्थ**  
अर्थयुक्त 426 27

**युक्ति**  
अनुगमन 308 8  
कारण 507 3  
कार्य नीति 517 6  
कूट युक्ति 819 8  
गुर 517 4  
तर्क 325 1  
युक्ति 517 1 ⇌  
सकट भ्रूचक युक्ति 910 2  
सटापन 31 2  
सुझाव 332 5

**युक्ति कर्ता**  
युक्ति कर्ता 517 10 ⇌

**युक्ति घतुष्टय**  
नीति घतुष्टय 819 2

**युक्तिपूर्ण**  
उपायपूर्ण 517 11  
तर्कपूर्ण 325 21  
विचारपूर्ण 330 18  
सुझावपूर्ण 332.16

**युक्तिपूर्णता**  
युक्तिपूर्णता 517 2 ⇌

**युक्तिपूर्वक**  
युक्तिपूर्वक 517.14 ⇌

**युक्ति प्रयोक्त**  
युक्ति कर्ता 517 10

**युक्तियुक्त**  
अखंडनीय 326 19  
अवसरानुकूल 70 14  
तर्कपूर्ण 325 21

**युक्ति लगना**  
युक्ति लगना 517.8 ⇌

**युक्तिवाद**  
विवेकवाद 325 16  
हिंदी काव्य सिद्धांत सूची 453 12

**युक्तिवादी**  
विवेकवादी 325 25

**युक्तिहीन**  
तर्कहीन 325 22

**युक्तिहीनता**  
तर्कहीनता 325 8

**युक्तीय**  
तर्कीय 325 20

**युगधर**  
जुअ, 1076 22  
जूआधारी 1076 29  
बम 1076 23  
हल जुआ 563 10

**युग**  
इतिहास काल 76 2  
काल 36 1  
जुआ 1076 22  
जोड़ी 687 3  
दीर्घ काल 37 5  
पाँच वर्ष 42 21  
युग 40.1 ⇌

**युग क्षय**  
युगात 40 3

**युग धर्म**  
कालानुसार आचरण 808 2

**युगपद**  
पार्श्वचरत 696 28  
समकाल 59 1  
समकालीन 59 3  
समपद मुद्रा 1029 6

**युगपदता**  
समकालीनता 59 2

**युग पुरुष**  
महापुरुष 839 3

**युग युग**  
दीर्घ काल तक 37 11  
युग युग 73.9 ⇌

**युगल**  
जोड़ी 687 3  
दपती 803 4  
नर मादा 236 20  
यमज 723 26

**युगलक**  
नर मादा 236 20

**युगल गान**  
युगल गीत 451 26

## युगल गीत

### युगल गीत

युगल गीत 451.26 ⇌

### युगलता

यमजता 723.15

### युग संधि

युग संधि 40.4 ⇌

### युग सत्य

युग सत्य 820.5 ⇌

### युगांत

प्रलय 530.1

युगांत 40.3 ⇌

### युगांतर

कालांतराल 60.4

क्रांति 903.5

पूर्ण परिवर्तन 532.8

### युगांतरकारी

पूर्ण परिवर्तनकारी 532.20

### युगांतर काल

युग संधि 40.4

### युगांतर में

कालांतर में 60.16

### युगांतराल

कालांतराल 60.4

### युगांतरे

कालांतर में 60.16

### युगादि

युगारंभ 40.2

सृष्टि रचना 529.1

### युगाध्यक्ष

प्रजापति 787.1

शिव 767.1

### युगारंभ

युगारंभ 40.2 ⇌

### युगावतार

महापुरुष 839.3

### युगावर्त

विष्णु 768.1

### युगी

युगीन 40.16

### युगीन

युगीन 40.16 ⇌

### युगीय

युगीन 40.16

### युगे युगे

पुनः 73.5

युग युग 73.9

### युगों तक

दीर्घ काल तक 37.11

### युगम

जोड़ी 687.3

जोत. जोड़ी 1071.32

### युगमक प्रणाली

द्वितीय लव प्रणाली 950.4

### युगमघर

द्वंद्वघर 696.14

### युगमघर्षा

द्वंद्वघर्षा 696.13

### युगमघारी

द्वंद्वघर 696.14

### युगमज

यमज 723.26

### युगमता

यमजता 723.15

### युगमन

गर्भदान 241.1

### युग्य

जोत जोड़ी 1071.32

### युज्य

संगत 438.6

### युत

संगत 438.6

सहित 1006.2

### युत

सहित. प्रत्यय सूची 1006.5

### युतक

जोड़ी 687.3

### युतता

सयुक्तता 1010.8

### युति

एकता 698.1

जोड़ी 687.3

प्रिय सयोग 389.3

मिलन 389.1

योगिक 1008.10

सयुक्तता 1010.8

संयुति 1010.7

### युतियुक्त

युतियुक्त 1010.24 ⇌

### युतिहीन

युतिहीन 1010.25 ⇌

### युतिहीनता

युतिहीनता 1010.12 ⇌

### युद्ध

युद्ध 905.4 ⇌

वजित दृश्य सूची 463.28

### युद्ध अंत

युद्ध अंत 906.3 ⇌

### युद्ध अंत होना

युद्ध अंत होना 906.10 ⇌

### युद्ध अपयान

पीछे हटना: कर्म 916.6

### युद्ध अपराध

युद्ध अपराध 907.34 ⇌

### युद्ध अपसरण

पीछे हटना: कर्म 916.6

### युद्ध अभ्यास

युद्ध अभ्यास 907.31 ⇌

### युद्ध आरंभ

युद्ध आरंभ 907.1 ⇌

युद्ध आरंभ करना

युद्ध आरंभ करना 907.35 ⇌

### युद्ध इच्छा

युद्ध इच्छा 907.2 ⇌

### युद्ध इच्छुक

युद्धेच्छुक 907.41

### युद्ध उत्साह

युद्ध उत्साह 907.3 ⇌

### युद्ध उपकरण

आयुध 922.1

### युद्धक

युद्धक विमान 1074.17

योद्धा 934.15

### युद्ध करना

युद्ध करना 905.31 ⇌

### युद्धक राकेट

युद्धक राकेट 1075.3 ⇌

### युद्ध कर्ता

योद्धा 905.34

योद्धा 934.15

### युद्ध कर्म

युद्ध कर्म 905.5 ⇌

### युद्धक विमान

युद्धक विमान 1074.17 ⇌

### युद्धक शीर्ष

वारहेड 1075.4

### युद्ध कांड

शालीकि रमायण कंड सूची 770.14

### युद्धकारी

योद्धा 934.15

### युद्ध क्षेत्र

युद्ध क्षेत्र 905.6 ⇌

### युद्ध गांधर्व

युद्ध गीत 907.19

### युद्ध गीत

युद्ध गीत 907.19 ⇌

### युद्ध घोष

युद्ध घोषणा 907.14

### युद्ध घोषणा

युद्ध घोषणा 907.14 ⇌

### युद्ध डंका

युद्ध डंका 907.21 ⇌

### युद्ध तूर्य

युद्ध तूर्य 907.22 ⇌

### युद्ध देवी

रण लक्ष्मी 775.5

युद्ध द्वारा कन्या प्राप्ति

राक्षस विवाह 799.28

### युद्धन

युद्ध कर्म 905.5

### युद्धनाद

युद्धनाद 907.15 ⇌

### युद्ध नारा

युद्ध घोषणा 907.14

युद्ध नीति: चार उपाय

नीति चतुष्टय 819.2

### युद्ध पर जाना

युद्ध पर जाना 907.38 ⇌

### युद्ध पलायन

युद्ध पलायन 916.5 ⇌

युद्ध पलायन करना

युद्ध पलायन करना 916.14 ⇌

### युद्ध पलायित

युद्ध पलायित 916.23 ⇌

### युद्ध पोत

नौसेना पोत 1072.43

बैटलशिप 1072.49

### युद्धप्रिय

युद्ध प्रेमी 907.42

### युद्धप्रियता

युद्ध प्रेम 907.4

### युद्ध प्रेम

युद्ध प्रेम 907.4 ⇌

### युद्ध प्रेमी

युद्ध प्रेमी 907.42 ⇌

### युद्ध बंद होना

युद्ध अंत होना 906.10

### युद्धबंदी

युद्ध अंत 906.3

### युद्ध बंदी

युद्ध बंदी 868.20 ⇌

विजित दास 651.15

### युद्ध भूमि

युद्ध क्षेत्र 905.6

### युद्ध मृत

युद्ध मृत 249.26 ⇌

### युद्ध मृत्यु

युद्ध मृत्यु 249.7 ⇌

युद्ध में मरना

युद्ध में मरना 249.20 ⇌

### युद्ध यात्रा

युद्ध यात्रा 907.23 ⇌

### युद्ध यान

टैक 1070.17

### युद्ध रंग

युद्ध क्षेत्र 905.6

### युद्ध लूट

विजित घन 864.28

### युद्ध वाद्य

युद्ध वाद्य 907.20 ⇌

### युद्ध विद्या

युद्ध विद्या 907.28 ⇌

### युद्ध विराम

युद्ध विराम 906.4 ⇌

युद्ध विराम ध्वजा

युद्ध विराम ध्वजा 408.6 ⇌

### युद्धवीर

रणवीर 396.9

### युद्ध वेणु

युद्ध तूर्य 907.22

### युद्ध संगीत

युद्ध संगीत 907.16 ⇌

### युद्ध संचालक

युद्ध संचालक 907.50 ⇌

युद्ध संचालन कर्ता

युद्ध संचालन 907.50

### युद्ध सज्जा

शस्त्र धारण 930.1

### युद्ध सन्नद्ध

युद्ध सन्नद्ध 907.43 ⇌

### युद्ध सन्नद्धता

युद्ध सन्नद्धता 907.5 ⇌

युद्ध सन्नद्ध होना  
 युद्ध समरद्ध होना 907.36 ⇨  
 युद्ध समर्पक  
 युद्ध समर्पक 916.26 ⇨  
 युद्ध समर्पण  
 युद्ध समर्पण 916.9 ⇨  
 युद्ध समर्पण करना  
 युद्ध समर्पण करना 916.17 ⇨  
 युद्ध समर्पण कर्ता  
 युद्ध समर्पक 916.26  
 युद्ध समाप्ति  
 युद्ध अंत 906.3  
 युद्ध सार  
 घोड़ा 127.35  
 युद्ध स्थान  
 युद्ध विराम 906.4  
 युद्ध स्थान  
 टैक 1070.17  
 युद्धहीन  
 शांतिपूर्ण 906.13  
 युद्धहीनता  
 शांति काल 906.1  
 युद्ध होना  
 युद्ध होना 905.30 ⇨  
 युद्धांगन  
 युद्ध क्षेत्र 905.6  
 युद्धांत  
 युद्ध अंत 906.3  
 युद्धांत संधि  
 संधि 906.5  
 युद्धाग्र  
 वारहेड 1075.4  
 युद्धातुर  
 युद्धेच्छुक 907.41  
 युद्धातुरता  
 युद्ध इच्छा 907.2  
 युद्धापराध  
 युद्ध अपराध 907.34  
 युद्धारंभ  
 युद्ध आरंभ 907.1  
 युद्धार्थी  
 युद्धेच्छुक 907.41  
 युद्धीय  
 यौद्धिक 905.33  
 युद्धेच्छु  
 युद्धेच्छुक 907.41  
 युद्धेच्छुक  
 युद्धेच्छुक 907.41 ⇨  
 युद्धोत्पत्कता  
 युद्ध इच्छा 907.2  
 युद्धोन्मत्त  
 युद्धेच्छुक 907.41  
 युद्धोन्मत्तता  
 युद्ध इच्छा 907.2  
 युद्धोपकरण  
 आयुध 922.1  
 युधवीर  
 रणवीर 396.9

युधासुर  
 नद 771.67  
 युधिष्ठिर  
 पद्य पांडव सूची 771.29  
 युधिष्ठिर 771.80 ⇨  
 युधिष्ठिर पक्षीय कृत्तवशी  
 पांडव 771.27  
 युध्म  
 धनुष 926.8  
 युयु  
 घोड़ा 127.35  
 युयुत्सा  
 युद्ध इच्छा 907.2  
 शत्रुता 706.1  
 युयुत्सु  
 युद्धेच्छुक 907.41  
 युयुत्सु 771.81 ⇨  
 युयुधान  
 इंद्र 773.5  
 क्षत्रिय 731.19  
 योद्धा 934.15  
 युयक  
 युयक 231.8 ⇨  
 युयक वर  
 युवा जन 231.7  
 युयजन  
 युवा जन 231.7  
 युयती  
 युयती 231.9 ⇨  
 युयन्मु  
 युयक 231.8  
 युवराज  
 बका पुत्र 718.8  
 युवराज 882.22 ⇨  
 युवराजः पत्नी  
 युवराज्ञी 882.23  
 युवराज्ञी  
 युवराज्ञी 882.23 ⇨  
 युवरानी  
 युवराज्ञी 882.23  
 युवा  
 युवक 231.8  
 युवा 231.12 ⇨  
 वसत कालीन 52.3  
 युवा अवस्था  
 जीवन. चार अवस्था सूची 229.17  
 यौवन 231.6  
 युवा जन  
 युवा जन 231.7 ⇨  
 युवानक  
 नवयुवक 231.2  
 युवा स्त्री  
 युवती 231.9  
 युवा होना  
 युवा होना 231.11 ⇨  
 यू  
 इस लिए 507.10

यू ही  
 अकृततः 505.34  
 अक्रमत (घयित) 1009.23  
 अटकल के सहारे 947.29  
 अप्रयत्नतः 490.15  
 कारणहीनतः 567.8  
 निरशुल्कतः 665.9  
 प्रयोजनहीनतः 509.5  
 राह चलते 1098.27  
 सहजतः 518.24  
 यूरेनओ (अं)  
 संयुक्त राष्ट्र संघ 443.16  
 यूरेक्रओ. (अं)  
 उड़न तरतरी 1074.4  
 युयुत्सु  
 जू 122.23  
 यूकरिस्ट  
 यूकरिस्ट 798.32 ⇨  
 यूकरिस्ट (अं)  
 कम्प्यूनियन 751.20  
 यूकरिस्ट 798.32  
 यूकलिप्टस (अं)  
 काष्ठ सूची 597.2  
 यूका  
 जू 122.23  
 यूक्सिडी  
 द्विआयामीय 964.23  
 यूक्सिडस (अं)  
 ज्यामिति 956.1  
 यू टर्न (अं)  
 यूल्हा मोड 974.12  
 यूथ  
 दल 691.1  
 समूह 690.1  
 यू-11 932.1  
 यूथघर  
 दलघर 696.12  
 यूथनाथ  
 दल नायक 852.6  
 यूथपतित्व  
 दल नायकता 852.5  
 यूथः  
 दस्ता 932.24  
 यूथिका  
 जूही 14.18  
 यूथी  
 जूही 14.18  
 यूनाइटेड नेशंस (अं)  
 संयुक्त राष्ट्र संघ 443.16  
 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गनाइज़ेशन (अं)  
 संयुक्त राष्ट्र संघ 443.16  
 यूनानी  
 यवन जातीय 732.20  
 यूनानी धिक्किस्तक  
 हकीम 172.11  
 यूनानी धिक्किस्ता  
 हकीमी 172.10

यूनित  
 सेल 937.8  
 यूनित (अं)  
 दस्ता 932.24  
 यूनिटी (अं)  
 एकता 898.1  
 यूनिकार्म (अं)  
 वरदी 589.14  
 यूनियन (अं)  
 कर्म संघ 892.16  
 राजनीतिक दल 885.15  
 राज्य संघ 881.8  
 श्रमिक संघ 692.19  
 संस्था 692.1  
 यूनियन (अं)  
 विद्यालय परिसर 804.2  
 यूनिसैक्स (अं)  
 उभय परिधान 583.11  
 यूनो (अं)  
 संयुक्त राष्ट्र संघ 443.16  
 यूय  
 यज्ञ स्तम्भ 753.19  
 यूपी (बीज रूप) (अं)  
 उत्तर प्रदेश 28.17  
 यूय  
 पलाश 13.13  
 यूफोरिया (अं)  
 सुख भांति 342.2  
 यूरिया  
 रासायनिक उर्वरक सूची 552.13  
 यूरेनस (अं)  
 अरुण ग्रह 7.12  
 यूरोप  
 महाद्वीप सूची 26.5  
 यूय  
 काड़ा 208.19  
 भाजीः रसा 201.24  
 रस 84.3  
 ये  
 इन 316.13  
 ये 316.12 ⇨  
 येन केन  
 जैसे कैसे 514.22  
 येन केन प्रकारेण  
 क्षमतापूर्वक 487.33  
 जैसे कैसे 514.22  
 येनम्मा  
 होतिका 783.27  
 येथु  
 ईसा 791.8  
 येन  
 येन 829.22 ⇨  
 यों  
 ऐसे 514.23  
 यों तो  
 अथवा 945.13  
 यो  
 यह 316.11

## योक (अँ)

### योक (अँ)

जुआ 1076 22

### योक्त

जोतनहार 1079 22

### योक्

जोतनहार 1079.22

### योगधर

पीतल 94 10

### योग

आरम्भिक लक्षण 317 6

इन्द्रिय निग्रह 364 4

इष्ट योग 261 29

उपयुक्त अवसर 70 3

कर्मफल 504 10

ग्रहयोग 261 28

जोड़ फल 954.3

जोत गाड़ी 1071.28

ध्यान 331 1

नव प्रयोग 307 6

नीति चतुष्टय 819 2

पद्याग अग सूची 41 2

परिस्थिति 69 5

प्रेम 368.1

मगल काल 796.3

मिलन 389 1

मुहूर्त 49.10

मोक्ष साधन सूची 257 4

युक्ति 517 1

योग 756 1 ⇌

विधि (क्रानून) 878 1

संबंध 715 1

संभावना 68 1

संभावना लक्षण 68 3

संयम 808 8

सयुक्तता 1010 8

सयुक्ति 1010 7

संयोग 69 1

समृद्धि 626 1

सहयोग 700 1

हठयोग 756 11

### योग अग्नि

योग अग्नि 756 15 ⇌

### योग अभ्यास

योगाभ्यास 756 2

### योग आसन

योग आसन 756.18 ⇌

### योग आसन सूची

योग आसन सूची 756 19 ⇌

### योग कन्या

योग माया 771.82

### योगकरण

जोड़ कर्म 954 2

### योग करना

जोड़ करना 954.11

योग करना 756.24 ⇌

### योगक्षेम

योगक्षेम 710.8 ⇌

शांति काल 906.1

### योगक्षेम कर्ता

योगक्षेम कर्ता 710 26 ⇌

### योगक्षेमकारी

योगक्षेम कर्ता 710 26

### योग चूर्ण

जादुई बुकनी 474 27

### योग दर्शन

छह आस्तिक दर्शन सूची 760 28

योग सूत्र 740 51

### योग दान

घटा 665 1

श्रमदान 700 9

सहायता 700 11

### योग ध्वनि

योग ध्वनि 756 16 ⇌

### योगनाथ

शिव 767 1

### योग निद्रा

दुर्गा 776 7

युद्ध मृत्यु 249 7

हिप्नोटिज्म 758 30

### योगपति

विष्णु 768 1

### योग परिणाम

जोड़ फल 954 3

### योग फल

जोड़ फल 954 3

### योग बल

तप शक्ति 756.23

### योग माता

दुर्गा 776 7

### योग माया

भगवती 774 59

योग माया 771 82 ⇌

योग शक्ति 756 17

### योग यंत्र

अबाकस 950 14

### योग रोचना

जादुई आलेप 474 19

### योगवती

योगिनी 756 4

### योग दधिन्न

अबाकस 950 14

### योगयज्ञ

सयोगयज्ञ 69 12

### योगयान

योगी 756 3

### योग वासिष्ठ

योग वासिष्ठ 740 46

### योग वासिष्ठ

योग वासिष्ठ 740.46 ⇌

### योग वासिष्ठ रक्षेता

वासिष्ठ 789.18

### योगवाही

शोरा 87 16

### योगविद

बाजीगर 473.18

योगी 756 3

### योग विषयक

योगीय 756 26

### योग शक्ति

तप शक्ति 756 23

योग शक्ति 756 17 ⇌

साधु सिद्धि 790.29

### योग शास्त्र

गीता 740 14

### योग साधन

तपस्या 756 21

### योग साधन करना

योग करना 756 24

### योग साधना

तपस्या 756 21

योग करना 756 24

योगाभ्यास 756 2

### योगसिद्ध

योगेश्वर 756 5

### योग सूत्र

योग सूत्र 740 51 ⇌

### योगांग

योगांग 756.13 ⇌

### योगांग सूची

योगांग सूची 756.14 ⇌

### योगांगन

जादुई काजल 474 20

### योगाग्नि

योग अग्नि 756 15

### योगाधरण

योगाभ्यास 756 2

### योगाधार

बौद्ध संप्रदाय सूची 737 15

योगाभ्यास 756.2

### योगाधार दर्शन

छह नास्तिक दर्शन सूची 760.29

### योगाचार्य

शुक्राचार्य 789 23

### योगात्मा

योगी 756 3

### योगानंद

नृसिंह नौ रूप सूची 769 21

### योगाभ्यास

योगाभ्यास 756.2 ⇌

### योगायोग

सयोग 69 1

### योगारूढ़

योगी 756 3

विरक्त 366 6

संन्यासी 790.11

### योगासन

योग आसन 756.18

### योगित

अभिमंत्रित 758.40

### योगिता

स्थितता 1020.2

### योगिनी

कालरात्रि 774.24

जादुगरनी 474 12

देवी 774 1

पार्वती 776 9

ब्रह्मणी 774 58

माहेश्वरी 774 72

योग माया 771 82

योगिनी 756 4 ⇌

योगिनी 774.77 ⇌

रणदुर्गा 776 8

लक्ष्मी 775 1

विद्यवासिनी 774 85

### योगिनी चक्र

नक्षत्र चक्र 4 3

### योगिनी पूजा

तत्रवाद 737 36

### योगिया

राग रागिनी सूची 457 24

### योगीन्द्र

योगेश्वर 756 5

### योगी

अनासक्त 366 5

आत्मज्ञानी 761 28

ऋषि 789 2

जादुगर 474 11

भिक्षापीपी कृत्स्व साधु संदाय 790 21

योगी 756 3 ⇌

विष्णु 768 1

शिव 767 1

साधु सन्यासी 790.1

सिद्ध साधु 790 30

### योगी दंड

बेत 923 8

### योगीनाथ

शिव 767 1

### योगी भोगी

विपरीतता उपमान सूची 310 13

### योगीय

योगीय 756 26 ⇌

### योगीरा

कृष्ण 771 1

योगेश्वर 756.5

विष्णु 768 1

शिव 767 1

### योगीश्वर

कृष्ण 771 1

योगेश्वर 756.5

विष्णु 768 1

योगीश्वरी

दुर्गा 776 7

### योगी होना

सन्यास लेना 233.9

### योगेन्द्र

कृष्ण 771.1

योगेश्वर 756.5

शिव 767 1

### योगेश

कृष्ण 771.1

योगेश्वर 756.5

शिव 767.1

सिद्ध साधु 790.30  
 योगेश्वर  
 कृष्ण 771.1  
 योगेश्वर 756.5 ⇨  
 शिव 767.1  
 सिद्ध साधु 790.30  
 योगेश्वरी  
 दुर्गा 776.7  
 योगेश्वरी 756.6 ⇨  
 योगेश्वर  
 सीसा 94.14  
 योगोपनिषद्  
 शत्रु नाश 706.9  
 योग्य  
 अधिकार भागी 897.16  
 अहंतासपन्न 303.16  
 अवसरानुकूल 70.14  
 आचरणीय 808.13  
 आदरणीय 854.18  
 उपयोगी 524.18  
 प्रवीण 303.22  
 योग्य 303.14 ⇨  
 संगत 438.6  
 सभ्य 733.13  
 सुभात्र 303.15  
 योग्यता  
 अवसरानुकूलता 70.2  
 उपयोगिता 524.6  
 कार्य क्षमता 487.9  
 क्षमता 487.7  
 प्रतिष्ठा 849.2  
 प्रवीणता 303.8  
 योग्यता 303.1 ⇨  
 सुपात्रता 303.2  
 योग्यता संपन्न  
 अहंतासपन्न 303.16  
 योग्य बनाना  
 प्रशिक्षित करना 321.33  
 योजक  
 आयोजक 655.19  
 परिकल्पक 520.19  
 मिलाने वाला 389.9  
 योजक चिह्न 425.37  
 योजना निर्माता 520.3  
 सयुक्त कर्ता 1010.23  
 सयोजक 693.15  
 सलग्न कर्ता 1010.20  
 योजक चिह्न  
 योजक चिह्न 425.37 ⇨  
 योजक चिह्न (-)  
 योजक चिह्न 425.37  
 योजन  
 एकीकरण 698.3  
 जोड़ कर्म 954.2  
 योजन 959.27 ⇨  
 सयोजन 1010.10  
 संयोजन 693.4

योजनगंधा  
 सत्यवती 771.95  
 सीता 770.66  
 योजना  
 निर्माण परिकल्पना 499.15  
 बंदिश 458.20  
 योजना 520.1 ⇨  
 रचना विन्यास 527.8  
 योजना निर्माण  
 योजना निर्माण 520.2 ⇨  
 योजना निर्माता  
 योजना निर्माता 520.3 ⇨  
 योजनानुसार  
 कार्यक्रमानुसार 520.22  
 योजनाबद्ध  
 योजित 520.17  
 योजना बनाना  
 योजना बनाना 520.16 ⇨  
 योजनाहीन  
 अव्यवस्थित 894.9  
 क्रमहीन 992.5  
 जल्दबाज़ 496.12  
 योजनाहीन 520.21 ⇨  
 योजनाहीनता  
 क्रमहीनता 992.7  
 योजनाहीनता  
 आकस्मिकता 69.4  
 क्रमहीनता 992.1  
 जल्दबाज़ी 496.4  
 योजनाहीनता 520.15 ⇨  
 योजित  
 आयोजित 655.18  
 एकीकृत 698.10  
 क्रमिक 991.21  
 योजित 520.17 ⇨  
 व्यवस्थित 893.13  
 सयुक्त 1010.22  
 संलग्न 1010.18  
 समाविष्ट 1002.21  
 योजित करना  
 योजना बनाना 520.16  
 योज्य  
 आचरणीय 808.13  
 योद्धव्य  
 योध्य 518.22  
 योद्धव्यता  
 योध्यता 518.10  
 योद्धा  
 कुश्तीबाज़ 486.9  
 पहलवान 486.2  
 योद्धा 905.34 ⇨  
 योद्धा 934.15 ⇨  
 वीर 396.6  
 सैनिक 934.1  
 योद्धा (वे.)  
 योद्धा 905.34  
 योद्धा वृत्ति  
 सैनिकता 932.2

योध  
 प्रशिक्षित सैनिक 934.2  
 योद्धक  
 प्रशिक्षित सैनिक 934.2  
 योद्धा 934.15  
 योध्य  
 युद्ध कर्म 905.5  
 योद्धा  
 कुश्तीबाज़ 486.9  
 पहलवान 486.2  
 योद्धा 934.15  
 सैनिक 934.1  
 योधी  
 योद्धा 934.15  
 सैनिक 934.1  
 योध्य  
 प्रशिक्षित सैनिक 934.2  
 हाथोद्धा 934.20  
 योध्य  
 योध्य 518.22 ⇨  
 योध्यता  
 योध्यता 518.10 ⇨  
 योनि  
 जननेंद्रिय 152.9  
 स्त्री जननेंद्रिय 152.12  
 योनि: अग्रभाग  
 भग 152.13  
 योनिज  
 योनिज 243.13 ⇨  
 योनि जगत  
 जीव जगत 121.3  
 योनिमुक्त  
 मोक्षगत 257.7  
 योनिमुख  
 भग 152.13  
 योनि लिंग  
 शिव मूर्ति 746.9  
 योनीय  
 जननेंद्रिय 152.12  
 योषिता  
 स्त्री 23f.3  
 योषित्रिया  
 हलदी 281.38  
 योष्य  
 तर्कीय 325.20  
 योगंधर  
 योगंधर 921.12 ⇨  
 योगिक  
 योगीय 756.26  
 योगिक 1008.10 ⇨  
 योगिक होना  
 योगिक होना 1008.20 ⇨  
 योगिकी  
 काव्य गुण सूची 453.4  
 योगिक  
 दहेज 802.4  
 योगिक  
 कन्याधन 802.1

दहेज 802.4  
 योधिक  
 सामूहिक 690.13  
 योधिक  
 युद्ध प्रेमी 907.42  
 योधिक 905.33 ⇨  
 योधिकता  
 युद्ध प्रेम 907.4  
 योध्य  
 योद्धा 934.15  
 योनि  
 जननेंद्रिय 152.18  
 योनि मनोविकार  
 योनि मनोविकार 353.14 ⇨  
 योनि  
 अहोरात्र 46.10  
 जयती 58.1  
 दिन 47.1  
 सप्ताह: वार 46.2  
 योषिया  
 दैनिक 71.14  
 योमुल अर्बजा  
 बुधवार 46.6  
 योमुल क्रियामत  
 क्रियामत दिन 530.4  
 योमुल खमीस  
 बृहस्पतिवार 46.7  
 योमुल हिसाब  
 क्रियामत दिन 530.4  
 योमुस सब्त  
 शनिवार 46.9  
 योमे आज़ादी  
 स्वतंत्रता दिवस 58.12  
 योमे हुसैन  
 शबे शहादत 57.53  
 योवन  
 प्रस्कूटन 119.1  
 योवन 231.6 ⇨  
 स्त्री स्तन 146.7  
 योवन आना  
 युवा होना 231.11  
 योवनपूर्ण  
 युवा 231.12  
 योवन प्राप्ति  
 कायाकल्प 172.16  
 योवना  
 मध्या नायिका 456.9  
 युवती 231.9  
 योवनोद्भव  
 कामदेव 773.12

र

रंक  
 कृपण 639.26  
 निर्धन 627.20  
 शिक्षक 642.5

## रंकता

### रंकता

कृपणता 639 9  
**रंग**  
 आनंद 382 1  
 उत्साह 491.1  
 कला शैली 397 14  
 कार्य विधि 514 1  
 कोटि 936.1  
 गतिविधि 502 2  
 जातीय रंग 730 6  
 तुरूप 479 19  
 नृजाति 730 14  
 प्रभाव 511 1  
 प्रेक्षागार 471 1  
 प्रेम 368 1  
 मंच 695.12  
 मद्य नाटक 463.1  
 मद 211 1  
 मन तरंग 351 6  
 मनोरंजक दृश्य 312 7  
 मनोरंजन 469 1  
 रंग 289.1 ⇌  
 रंगमद्य 471 14  
 रंगव्य 290 1  
 वर्ण 731 2  
 विलास 363.6  
 सगति प्रभाव 696 5  
 सज्जज 226 6  
 स्याही 416 25  
 होली 57 30  
**रंग: अप्रगाढ़ता**  
 रंग आभा 289 2  
**रंग आकृष्यानी**  
 रंगार्पण 57 37  
**रंग आना**  
 मद प्रभाव होना 211 9  
 रसोत्पादन होना 468 33  
**रंग आभा**  
 रंग आभा 289 2 ⇌  
**रंग आभास**  
 रंग झलक 289 4  
**रंग उड़ना**  
 विवर्ण होना 291 10  
**रंग उत्तरना**  
 प्रभाव कम होना 511.11  
 विवर्ण होना 291.10  
**रंग उत्तरा**  
 विरंजित 291 17  
**रंग करना**  
 आरंजित करना 291 7  
**रंग कर्मी**  
 आरंजन कर्मी 291 12  
 मंच कर्मी 468.9  
**रंगकार**  
 आरंजन कर्मी 291 12  
 रंगरेज 578 2  
**रंगक्षेत्र**  
 खेल मैदान 482 10

**रंग खुलना**  
 रंग प्रस्फुटित होना 291 9  
**रंगगृह**  
 नाट्यशाला 471 12  
**रंग बहना**  
 आरंजित होना 291 6  
 प्रभावित होना 511 8  
**रंगघर**  
 अभिनेता 464 5  
**रंग चूर्ण**  
 पिगमेंट 290 10  
**रंग छाया**  
 रंग छाया 289.3 ⇌  
**रंग जमना**  
 प्रभाव होना 511 7  
 रसोत्पादन होना 468 33  
**रंग जमाना**  
 प्रभावित करना 511 9  
**रंगजीवी**  
 अभिनेता 464 5  
 रंगरेज 578 2  
**रंग झलक**  
 रंग झलक 289 4 ⇌  
**रंग: डिब्बा**  
 कलर बाक्स 416 22  
**रंगडंग**  
 आधारण 808.1  
 घरित्र 810.1  
 परिस्थिति 69.5  
 व्यवहार 703 2  
**रंगत**  
 प्रभाव 511.1  
 मनोरंजन 469 1  
 वैभव 226 5  
 शोभा 226 1  
**रंगतरा**  
 सतरा 190 34  
**रंगद**  
 आरंजक 291.11  
 कथा 213 21  
 सुहागा 281 33  
**रंगदा**  
 फिटकरी 281 25  
**रंगदान**  
 कलर बाक्स 416 22  
**रंगदानी**  
 कलर बाक्स 416.22  
**रंगदार**  
 आरंजित 291 14  
**रंगदार मिर्च**  
 देगी मिर्च 278 5  
**रंग दूधन**  
 रंग दूधन 291.2 ⇌  
**रंग दूधव्य**  
 रंग दूधव्य 290 18 ⇌  
**रंग द्रव्य**  
 रंगव्य 290 1

**रंगद्वार**  
 पट समक्ष पूर्वरंग सूची 468 19  
 मगलाचरण 465.7  
**रंगना**  
 आरंजित करना 291 7  
**रंग पक्का करने वाला द्रव्य**  
 रंग दूधव्य 290.18  
**रंग पात्र**  
 पैलेट 404 34  
**रंगनाशी**  
 रंगार्पण 57 37  
**रंगपीठ**  
 नृत्य शाला 471 8  
**रंग पुताई**  
 पुताई 291 4  
**रंग पूजा**  
 नाट्य आरम्भ सूची 468 24  
**रंग: प्रगाढ़ता**  
 रंग छाया 289 3  
**रंगप्रद**  
 आरंजक 291 11  
**रंग प्रदान**  
 आरंजन 291 1  
**रंग प्रस्फुटन**  
 रंग प्रस्फुटन 291 3 ⇌  
**रंग प्रस्फुटित होना**  
 रंग प्रस्फुटित होना 291 9 ⇌  
**रंग बंधक द्रव्य**  
 रंग बंधव्य 290 19  
**रंग बंधव्य**  
 रंग बंधव्य 290.19 ⇌  
**रंगविरंगा [रंगविरंगी]**  
 बहुरंगा [बहुरंगी] 289 70  
**रंगविरंगापन**  
 बहुरंगीयता 289 22  
**रंगविरंगी दरी**  
 रंगविरंगी दरी 593.53 ⇌  
**रंगविरंगे टुकड़ों वाली रजाई**  
 सिले टुकड़े वाली रजाई 593.16 ⇌  
**रंगभंग**  
 आनंद भंग 383 3  
**रंग भय**  
 मद्य भय 468 28  
**रंग भरीया**  
 रंग भरीया 404.37 ⇌  
**रंग भवन**  
 उत्सव स्थान 56 4  
 ऐश्वर्य भवन 602.12  
 क्रीडा स्थल 482 1  
 जनानखाना 614 20  
 नाट्यशाला 471.12  
**रंग भीति**  
 मद्य भय 468.28  
**रंगभूमि**  
 उत्सव स्थान 56.4  
 कुरती मैदान 482 11  
 क्रीडा स्थल 482 1  
 खेल मैदान 482.10

**युद्ध क्षेत्र** 905.6  
**रंगभूमि** 471.13 ⇌  
 रंगमंच 471.14  
**रंगभूषा**  
 मद्य सज्जा 471 18  
**रंगमंच**  
 नाट्य जगत 470 2  
 रंगमंच 471 14 ⇌  
**रंगमंच पट**  
 यवनिका 606 1  
**रंगमंचीयता**  
 नाटकीयता 466 2  
**रंग मंडप**  
 रंगभूमि 471 13  
**रंग महल**  
 ऐश्वर्य भवन 602 12  
 क्रीडागृह 482 2  
 जनानखाना 614 20  
**रंग मिश्रित**  
 रंग सकर 730 23  
**रंग में भंग पड़ना**  
 आनंद भंग होना 383 6  
**रंग रंगीली होली**  
 होली 57 30  
**रंगरस्ती**  
 विलास 363 6  
**रंगरस**  
 मनोरंजन 469 1  
 विलास 363 6  
**रंग रसिया**  
 आनंदशील 382 19  
 विनोदी 385 13  
 विलासी 363 20  
**रंगराता [रंगराती]**  
 तल्लीन 331 14  
 प्रेमासक्त 368 21  
**रंगरास**  
 विलास 363 6  
**रंगरुट**  
 नया भरती सैनिक 934 4  
 नौसिखिया 304 10  
**रंगरूप**  
 अंग अनुपात 155 1  
 आकार रूप 967 5  
 हुलिया 317 11  
**रंगरेज**  
 रंगरेज 578 2 ⇌  
**रंगरेज़ी**  
 रंगरेज़ी 578 1 ⇌  
**रंगरेली**  
 मनोरंजन 469 1  
 विलास 363.6  
**रंगरैनी**  
 लाल चुन्नी 585 15  
**रंग विज्ञान**  
 रंग विज्ञान 289.5 ⇌  
**रंग विज्ञानीय**  
 रंग विज्ञानीय 289.30 ⇌

**रंग विद्या**  
 नृत्य शास्त्र 463 23  
 मंच कला 397.10  
**रंग विन्यास**  
 रंग विन्यास 289 11 ⇨  
**रंगव्य**  
 रंगव्य 290.1 ⇨  
**रंगव्य गौद**  
 रंगव्य गौद 1012 9 ⇨  
**रंगशाला**  
 नाट्यशाला 471 12  
 प्रेक्षागार 471 1  
**रंग संकर**  
 रंग संकरता 730 23 ⇨  
**रंग संकरता**  
 रंग संकरता 730 13 ⇨  
**रंग सज्जा**  
 मंच सज्जा 471 18  
**रंगसाज**  
 आरजन कर्मी 291 12  
**रंगहीन**  
 अरजित 291 15  
**रंगांगण**  
 नृत्य शाला 471 8  
**रंगा [रैगी]**  
 आरजित 291 14  
 तल्लीन 331 14  
 प्रभावित 511 13  
**रंगाई**  
 आरंजन 291 1  
 रंगरेजी 578 1  
**रंगाजीय**  
 चित्रकार 404 25  
**रंगाजीयी**  
 चित्रकार 404 25  
**रंगापन**  
 तल्लीनता 331 6  
**रंगारंग**  
 बहुरंगा [बहुरंगी] 289 70  
**रंगारंग कार्यक्रम**  
 विविध मनोरजन 468 3  
**रंगार्पण**  
 रंगार्पण 57.37 ⇨  
**रंगालय**  
 नाट्यशाला 471 12  
**रंगालेपन**  
 पुताई 291.4  
**रंगावतरण**  
 अभिनय 464 2  
 मंच प्रवेश 468.26  
**रंगावतारक**  
 अभिनेता 464.5  
**रैगिया**  
 आरंजन कर्मी 291.12  
 रंगरेज़ 578.2  
**रैगी**  
 अभिनेता 464.5  
 आनंदशील 382.19

**रंगीन**  
 आनंदपूर्ण 382 16  
 कला प्रेमी 400.17  
 बहुरंगा [बहुरंगी] 289 70  
 रसिक 837.18  
 विनोदी 385 13  
 यिलासी 363 20  
 शृंगार प्रेमी (पुरुष) 222 5  
**रंगीन (दे.)**  
 आरजित 291 14  
**रंगीनभिजाज़**  
 यिलासी 363 20  
**रंगीनभिजाज़ी**  
 रसिकता 837 9  
**रंगीन वस्त्र**  
 रंगीन वस्त्र 578 18 ⇨  
**रंगीनी**  
 आनंद मगल 382.3  
 तड़क भड़क 226 4  
 बहुरंगीयता 289 22  
 मद 211.1  
 रसिकता 837 9  
 विनोद प्रेम 385 2  
 विलासप्रियता 363 7  
**रंगीय**  
 रंगीय 289.29 ⇨  
**रैगीला**  
 शृंगार प्रेमी (पुरुष) 222 5  
**रैगीला [रैगीली]**  
 अलमस्त 382 23  
 आनंदशील 382 19  
 फ़ैशनप्रिय 222.19  
 रसिक 837.18  
 विनोदी 385 13  
 यिलासी 363 20  
**रैगीलापन**  
 शृंगार प्रेम 222 4  
**रैगीली**  
 शृंगार प्रेमी (स्त्री) 222.6  
**रैगीली शान**  
 विविध मनोरंजन 468 3  
**रैगे जाना**  
 आरजित होना 291.6  
**रंगोत्सव**  
 होली 57 30  
**रंगोपजीवी**  
 नर्तक 462 13  
 मंच कर्मी 468.9  
**रंघ**  
 सूक्ष्म अंश 939.6  
**रंघक**  
 अत्यल्प 942.16  
 पुट 1008.6  
 सूक्ष्म अंश 939.6  
**रंघमात्र**  
 अत्यल्प 942.16  
**रंघ मात्र**  
 पुट मात्र 1008.25

**रंघमात्रतः**  
 सूक्ष्मांशतः 939.22  
**रंघमात्रता**  
 अत्यल्पता 942.2  
**रंघ**  
 उदासी 380 5  
 कष्ट 392 1  
 खेद 380 1  
 दुःख 391 1  
 परधात्ताप 380 4  
 शोक 383.1  
**रंघक**  
 आनंदप्रद 382.18  
 आरजक 291 11  
 आरजन कर्मी 291 12  
 तोपः बारूद प्याली 927 22  
 रंगरेज 578.2  
 रोघक 400 12  
**रंघक ब्रह्म**  
 रंगव्य 290.1  
**रंघन**  
 आरंजन 291 1  
 मनोरजन 469 1  
 रंगरेजी 578 1  
 स्वर्ण 95 4  
**रंघनी**  
 नील निर्यास 220 24  
 हलदी 281 38  
**रंघव्य**  
 रंगव्य 290 1  
**रंघिका**  
 मेहंदी 225.33  
**रंघित**  
 आरजित 291 14  
 मनोरजित 469 12  
 सुरजित 291.16  
**रंघितता**  
 संसिकृता 1008 16  
**रंघित होना**  
 आरजित होना 291 6  
**रंघिश**  
 अप्रसन्नता 381 3  
 दुःख 391 1  
 प्रतिशोध भावना 873 3  
 रुष्टि 374 2  
 वैमनस्य 706 10  
**रंघीबगी**  
 अप्रसन्नता 381 3  
 दुःख 391 1  
 वैमनस्य 706 10  
**रंघीवा**  
 अप्रसन्न 381 10  
 उदास 380 14  
 छिन्न 380.10  
 परधात्तापपूर्ण 380 12  
 रुष्ट 374.17  
 शोकग्रस्त 383.8

**रंघ**  
 फलहीन 116.12  
**रंघा**  
 विधवा 804 15  
**रंघापा**  
 वैधव्य 804 14  
**रंघाशमी**  
 विधुर 804 19  
**रंघी**  
 विधवा 804 15  
 देश्या 807 5  
**रंघीबाज़**  
 देश्यागामी 807 16  
**रंघीबाज़ी**  
 देश्यागमन 807 1  
**रंघुआ**  
 विधुर 804 19  
**रंघुआपन**  
 पत्नीहीनता 804 13  
 विधुरता 804 18  
**रंघुआ होना**  
 विधुर होना 804 25  
**रंघौरा**  
 विधुर 804 19  
**रंघा**  
 आनंदशील 382 19  
 क्रीडाप्रिय 469 16  
 यिलासी 363.20  
**रंघि**  
 मनोरंजन 469 1  
**रंघिदेव**  
 कुत्ता 127 71  
 विष्णु 768 1  
**रंघ**  
 गवाक्ष 608 15  
 परकोटा. अस्त्र छिद्र 804 15  
 रोशनदान 608 20  
**रंघना**  
 रंदा करना 542.9  
**रंघा**  
 रंदा 559.31 ⇨  
**रंघाई**  
 रदन 542.1  
**रंघा करना**  
 रंदा करना 542 9 ⇨  
**रंघा कर्म**  
 रदन 542 1  
**रंघा कर्मी**  
 रंदा कर्मी 542.17 ⇨  
**रंघा कृत**  
 रंदा कृत 542.16 ⇨  
**रंघा फेरना**  
 रंदा करना 542.9  
**रंघन**  
 रंघाई 195.18  
**रंघना**  
 आरंभ होना 994 10

## रॅथा [रॅथी]

### रॅथा [रॅथी]

रॅथा [रॅथी] 195.64 ⇨

### रॅथाई

रॅथाई 195.18 ⇨

रसोई कर्म 195.6

### रंधित

रॅथा [रॅथी] 195.64

### रंधी भाजी

भाजी 201.16

### रंध

छिद्र 271.6

त्वचा रंग 134.4

शरीर रंग 138.1

### रंधण

अंतर्वेधन 271.1

### रंधयुक्त

छिद्रयुक्त 271.23

### रंधहीन

छिद्रहीन 272.9

### रंधिका

सूक्ष्म छिद्र 271.13

### रंधित

अंतर्वेधित 271.22

### रंधिल

छिद्रिल 271.24

### रंध (अँ)

घक्र बत्तीसवौं भाग 960.9

### रंध

असुर सूची 783.8

आधार स्तम्भ 807.8

केला 190.13

गभीर स्वर 299.7

त्रसरेणु 100.7

बॉस 597.8

रमाहट 298.27

सिलडराकार पिंड 976.10

### रंधा

अक्ष दंड 1077.12

अप्सरा सूची 782.3

डडा 923.5

पार्वती 776.9

रंभाहट 298.27

लीवर 1062.3

### रंधाई

रंभाहट 298.27

### रंधापति

इंद्र 773.5

### रंधा फल

केला 190.13

### रंधाहट

रंभाहट 298.27 ⇨

### रंधित

वाधित 461.105

### रंधी

द्वार पहरेदार 908.13

### रंधोक [रंधोक]

सुंदर जघा बाला 158.33

### रअव्यय

प्रजा 883.6

### रई

मथन दंड 554.14

रई 560.3 ⇨

### रईस

उच्चवित्त 625.7

दल नायक 852.6

घनाढ्य व्यक्ति 626.5

बड़ा जमींदार 553.15

मुखिया 852.7

सभापति 694.18

सामत 882.32

सेठ 626.8

### रईसजादा

बका आदमी. पुत्र 718.9

### रईस लोग

घनाढ्य जन 626.4

### रईसाना

घनाढ्योचित 626.17

### रईसी

उच्चवित्ताता 625.3

घनाढ्यता 626.3

### रईसे आजम

जगत सेठ 626.9

### रउरे

आप 316.19

### रक्रबा

क्षेत्रफल 966.1

### रक्रम

कुल जोड़ 954.5

कोटि 936.1

जोड़ फल 954.3

धन राशि 628.4

निश्चित संख्या 949.3

पूर्ण संख्या 949.11

प्रिय वस्तु 369.2

मुद्रांक 414.17

लिपिबद्धन 412.2

संख्या 948.1

### रक्रमी

दस्तावेज़ लिखित 412.49

### रकसैक

रकसैक 1087.34 ⇨

### रकसैक (अँ)

रकसैक 1087.34

### रकाब

आधार सूची 596.2

घुड़सवार पदाश्रय 596.19

बकी रकाबी 685.6

### रकाबा

परात 685.8

### रकाबी

प्लेट 685.3

### रकबीब

प्रतिद्वंद्वी 707.8

प्रेम प्रतिद्वंद्वी 368.4

### रकबीबा

प्रेम प्रतिद्वंद्विनी 368.5

### रक्रकास

नर्तक 462.13

### रक्रकासा

नर्तकी 462.14

नर्तकी वेश्या 807.7

### रकक

कमल 14.4

प्रयुक्तिशील 502.9

रुधिर 131.1

रुधिर्रीय 131.16

लाल 289.60

### रककंठी [रककंठिनी]

सुरीला [सुरीली] 459.38

### रककंद

प्रवाल 97.4

मूंगा 97.1

### रकक

रुधिर 131.1

### रककमल

कामदेव. पुष्प बाण सूची 773.19

रककमल 14.6 ⇨

### रककुमुद

कुमुद 14.9

### रककुसुम

मंदार वृक्ष 13.31

### रककुमिजा

लाक्षा 290.26

### रकक्राति

हिसक क्राति 903.11

### रकक्रीय

राक्षस 784.1

### रकचाप

रुधिर चाप 131.4

### रकता

लालिमा 289.18

### रकतुंड

तोता 126.44

### रकदान

रुधिर दान 131.7

### रकदोष

रुधिर पूयितता 169.10

### रकधातु

गेरू 290.21

### रकधा

जोंक 122.8

डाकिनी 786.7

### रकधात

मारकाट 905.25

### रकधुम्भ

पलाश 13.13

### रकधुम्भ

रुधिरयुक्त 131.17

### रकधुम्भ

रुधिर प्रवाह 131.3

### रकफल

बरगद 13.16

### रकबीज

असुर सूची 783.8

राक्षस सूची 784.4

रीठा 220.25

### रकमदिरा

लाल वाइन 209.16

### रकमुख

रोहू 125.11

### रकरंजित

रकरंजित 289.58 ⇨

हिसापूर्ण 251.30

### रकवर्ग

रुधिर वर्ग 131.9

### रकविषाक्तता

रुधिर पूयितता 169.10

### रकखिन (प्र)

हीमोग्लोबिन 179.15

### रकसंबंध

जनन संबंध 716.1

### रकहीन

रुधिरहीन 131.18

### रकहीन क्राति

अहिसक क्राति 903.12

### रकक्रांक

मूंगा 97.1

### रकक्रावर

जैन साधु 790.24

बौद्ध भिक्षु 790.27

लाल वस्त्र 578.22

सन्यासी 790.11

### रकक्रा

लाक्षा 290.26

### रककालय

ब्लड बैंक 131.8

### रककाशय

हृदय 146.5

### रकक

रती 962.53

### रकक्रा

रती 962.53

### रकक्रिन (प्र)

हीमोग्लोबिन 179.15

### रकक्रिम

रकरंजित 289.58

रुधिरयुक्त 131.17

रुधिर्रीय 131.16

लाल 289.60

हिसापूर्ण 251.30

### रकक्रिम क्राति

हिसक क्राति 903.11

### रकक्रिमा

लालिमा 289.18

### रकक्रोत्पल

रक कमल 14.8

### रकक्रोदर

रोहू 125.11

### रकक्रोपल

गेरू 290.21



माणिक 96 22  
**रक्ष**  
 सरक्षक 908 26  
**रक्षक**  
 अभिपिता 720 12  
 पालक पोषक 720 20  
 प्रतिरक्षक 908 24  
 मसीहा 791 3  
 रक्षक 908.20 ⇐  
 राक्षस 784 1  
 सकट मोचक 910 10  
 सरक्षक 908 26  
 सरक्षणपूर्ण सहायक 700 27  
**रक्षक आङ**  
 आङ 605 1  
**रक्षकहीन**  
 अरक्षित 909 22  
**रक्षण**  
 पहरेदारी 908 8  
 रोधन 920 5  
 संवर्धन 979 7  
**रक्षणहीन**  
 अभिभावकहीन 719 9  
**रक्षणहीनता**  
 अभिभावकहीनता 719 4  
**रक्षना**  
 रक्षा करना 908 16  
**रक्ष. माता**  
 खशा 787 13  
**रक्षा**  
 पहरा 908 5  
 प्रतिरक्षा 908 2  
 रक्षा 908 1 ⇐  
 राखी 57 21  
 शरण 910 4  
 सकट मोचन 910 1  
 सरक्षा 908 3  
**रक्षा करना**  
 रक्षा करना 908 16 ⇐  
 शरण देना 910.8  
**रक्षा कर्ता**  
 रक्षक 908 20  
**रक्षा कवच**  
 गडा तावीज़ 759 4  
**रक्षागृह**  
 पहरा चौकी 908 6  
**रक्षा नीका**  
 रक्षा नीका 1072.32 ⇐  
**रक्षा पाल**  
 पहरेदार 908.9  
**रक्षा पुच्छ**  
 पहरेदार 908 9  
**रक्षा प्राचीर**  
 सीमा परकोटा 804 19  
**रक्षा बंधन**  
 कलाया 569.23  
 रक्षा बंधन 57.20 ⇐

**रक्षा भूषण**  
 गडा तावीज़ 759 4  
**रक्षा मंगल**  
 भूत निवारण 759 8  
**रक्षा संबध**  
 भाई बहन संबध 23 1  
**रक्षा सूत्र**  
 कलाया 569 23  
 राखी 57 21  
**रक्षा सेवा**  
 रक्षा सेवा 890 10 ⇐  
**रक्षा स्थल**  
 शरण स्थल 910 5  
**रक्षाहीन**  
 अरक्षित 909 22  
**रक्षाहीनता**  
 अरक्षा 909 10  
**रक्षिका**  
 अभिमाता 720 13  
**रक्षित**  
 कवचधारी 921 15  
 पालित पोषित 720 19  
 रक्षित 908 19 ⇐  
 सकटमुक्त 910 9  
 संवर्धित 979 25  
 सुरक्षित 908 27  
**रक्षित (रहस्य)**  
 रक्षित (रहस्य) 823 14 ⇐  
**रक्षित बालक**  
 अमिपुत्र 720 15  
 अभिसतान 720 14  
**रक्षित वन**  
 रक्षित वन 12 8 ⇐  
**रक्षिता**  
 अभिपिता 720 12  
 पालक पोषक 720 20  
 रक्षक 908 20  
 सकट मोचक 910 10  
 सरक्षक 908 26  
**रक्षी**  
 रक्षक 908 20  
**रक्षोघ्न**  
 असुर नाशक 783 30  
 जादुई सरसो 474 32  
**रक्षस**  
 नृत्य 462 3  
**रक्ष**  
 रक्षित वन 12 8  
**रक्षकी**  
 रक्षा बंधन 57 20  
**रक्षना**  
 आरोप लगाना 875 22  
 तह करना 975.24  
 धरना 1019 10  
 नियुक्त करना 653 24  
 पालन पोषण करना 720 17  
 प्रतिपादन करना 326 7  
 भडारण करना 670.24

मिथ्या आरोप लगाना 875 23  
 रक्षा करना 908 16  
 लादना 1061 17  
 शरण देना 910 8  
 संग्रह करना 669 18  
 सचय करना 645 5  
 संवरण करना 667 11  
 स्थित करना 1020 7  
**रखनी**  
 रखेली 806 7  
**रखने लायक**  
 संग्रहणीय 669 20  
**रखने वाला**  
 आधारण कर्ता 1019 19  
**रखरखाव**  
 रखरखाव 538 4 ⇐  
**रखल**  
 उपद्रव 903 1  
 संघ 864 16  
**रखला**  
 छोटी गाड़ी 1071 30  
 तोप गाड़ी 1070 18  
**रखगाई**  
 कृषि रक्षण 550 1  
**रखयार**  
 सरक्षक 908 26  
**रखयाला**  
 ईसा 791 8  
 जीवन रक्षक 908 23  
 पहरेदार 908 9  
 पुलिस 866 1  
 सकट मोचक 910 10  
**रखयाला [रखयालिन]**  
 सरक्षक 908.26  
**रखयाली**  
 कृषि रक्षण 550 1  
 पर्यवेक्षण 784 21  
 पहरा 908 5  
 पहरेदारी 908 8  
 पुलिस कर्म 866 2  
 रक्षा 908 1  
 सरक्ष.: 908 3  
**रखयाली करना**  
 रक्षा करना 908 16  
**रखा**  
 रक्षित वन 12 8  
**रखा [रखी]**  
 अभुक्त 364.9  
 आधारित 1019 17  
 बंधकित 633 38  
 भडारित 670.25  
 संघित 645.9  
 स्थित 1020 8  
**रखाई**  
 आधारण 1019 5  
 कृषि रक्षण 550.1  
 पहरा 908 5

**रखा जाना**  
 धरा जाना 1019.9  
**रखाना**  
 धरागाह 556.10  
**रखाना**  
 पहरेदारी करना 908 18  
**रखापन**  
 आधारितता 1019 1  
**रखार**  
 पटेला 563.5  
**रखा होना**  
 स्थित होना 1020 6  
**रखिया**  
 पहरेदार 908 9  
 रक्षक 908 20  
**रखेकिया**  
 नकली साधु 790 18  
 भभूत धारी साधु 790.20  
**रखेल**  
 रखेली 806 7  
**रखेली**  
 रखेली 806 7 ⇐  
**रखैया**  
 आधारण कर्ता 1019 19  
**रखीत**  
 धरागाह 556 10  
**रखीत**  
 आखेट स्थल 252 22  
 रक्षित वन 12 8  
**रखीनी**  
 राखी 57 21  
**रखश**  
 घोड़ा 127 35  
 लाल सफ़ेद 289 78  
**रग**  
 कुव्यसन 812 7  
 घेता 131 14  
 ततु 569 1  
 तुष 526 5  
 नक़्क़ स्पंदन 1039 3  
 नरस् 243 3  
 वाहिका 131 10  
 शिरा 131 12  
 स्नायु 131 13  
**रगड़**  
 घिसघिसाहट 297 15  
 ठेस 1051.17  
 धक्का 1051 13  
 परिभ्रम 493 1  
 बर्निशिंग 218 13  
 रगड़ 167.11 ⇐  
**रगड़ खाते चलना**  
 लंगडाना 1084 40  
**रगड़ना**  
 कसीटी पर कसना 566 15  
 घर्षित करना 541.5  
 धोटना 540 11  
 धिकनाना 269 11

## रगड़ा

परिश्रम करना 493.6  
मसलना 541.6  
रविना 541.8  
लौंगडाना 1084 40  
स्वच्छ करना 218.24  
रगड़ा  
भरता 201 18  
रगड़ा [रगड़ी]  
घर्षित 541 10  
घुंटा [घुंटी] 197.34  
मसला [मसली] 541 12  
रगड़ाई  
घर्षण 541 1  
घुंटाई 540 3  
पोंछाई 218 6  
फेटाई 195 13  
बरतन मैजाई 218 9  
बर्निशिंग 218 13  
मसलाई 541 2  
मार्जन 218.8  
रगड़ा झगड़ा  
उपद्रव 903 1  
तकरार 708 7  
रगड़ाहट  
किरकिराहट 297 5  
रगण (SIS)  
वार्षिक गण सूची 452 43  
रगवना  
घलता करना 1092 13  
रगबत  
अभिरुचि 400 2  
प्रेम 388 1  
रगस  
घिसघिसाहट 297 15  
रगड़ 167 11  
रगसना  
घर्षित करना 541 5  
रगसा [रगसी]  
घर्षित 541 10  
रगसाई  
घर्षण 541 1  
रगी  
अनाज सूची 187 6  
रागी 187 18  
रगीला [रगीली]  
हठी 349 14  
रगी झकलास  
हीनता ग्रथि 352 8  
रगब  
निष्कासन 1092 10  
रगबना  
घलता करना 1092 13  
रघु  
हुतगामी [हुतगामिनी] 1044 7  
रघु 770.46 ⇌  
रघुकल आधार व्यवहार  
रघुकल परपरा 795 5

रघुकल धर्म  
रघुकल परपरा 795 5  
रघुकल परपरा  
रघुकल परपरा 795 5 ⇌  
रघुकल रीति  
रघुकल परपरा 795.5  
रघु कुमार  
राम 770 1  
रघुकुल गौरव  
राम 770.1  
रघुकुल तिलक  
राम 770 1  
रघुकुल प्रथम पुरुष  
रघु 770 46  
रघुकुल मणि  
राम 770 1  
रघु तनय  
राम 770 1  
रघु नंदन  
राम 770 1  
रघुनाथ  
राम 770 1  
रघुपति  
राम 770.1  
रघुबर  
राम 770 1  
रघुबीर  
राम 770 1  
रघुराय  
राम 770 1  
रघुवंश मणि  
राम 770 1  
रघुवर  
राम 770 1  
रघुवीर  
राम 770 1  
रघुलाम  
राम 770 1  
रघन  
रघना कर्म 527 1  
रघना  
अग अनुपात 155 1  
आरंजित होना 291 6  
उत्पाद 546 1  
कला कर्म 397 15  
कला कर्म करना 397 33  
कलाकृति 397.20  
कल्पना से बनाना 308 12  
पुस्तक 446.1  
रघना कर्म 527 1  
रघित करना 527 9  
रघित कृति 527 2  
लेख 449 17  
लेखन करना 448 25  
व्यवस्थापित करना 893 8  
शिल्पित करना 557 13  
शोभाञ्जित करना 226 8  
सघटन 545 1

सघटन करना 545 21  
साहित्य कृति 450.2  
साहित्य लेखन 448 1  
सृष्टि बनाना 529 4  
सृष्टि रचना 529 1  
स्थापत्य कृति 599 4  
रघना कर्म  
कला कर्म 397 15  
रघना कर्म 527.1 ⇌  
साहित्य लेखन 448 1  
रघनाकार  
कलाकार 397 16  
रचेता 527 14  
रघनाकार: अपनी कृति  
मीलिक कृति 397 24  
रघना काल  
सृष्टि काल 529 2  
रघनात्मक  
रघनात्मक 527.11 ⇌  
रघनाशील 527 15  
रघनात्मक आंदोलन  
रघनात्मक आंदोलन 904 9 ⇌  
रघनात्मकता  
रघनाशीलता 527 3  
रघनाधर्मी  
रघनाशील 527 15  
रघना न करना  
रघना न करना 528 4 ⇌  
रघना नाम  
शीर्षक 447 17  
रघना विन्यास  
रघना विन्यास 527.8 ⇌  
रघना शीर्षक  
शीर्षक 447 17  
रघनाशील  
रघनाशील 527 15 ⇌  
रघनाशीलता  
रघनाशीलता 527 3 ⇌  
रघना शैली  
कला शैली 397 14  
रघनाहीन  
रघनाहीन 528.5 ⇌  
रघनाहीनता  
रघनाहीनता 528 2 ⇌  
रघनीय  
रघनीय 527 13 ⇌  
रघयिता  
कलाकार 397 16  
सृष्टि रचेता 529 5  
रघयिता [रघयित्री]  
रचेता 527 14  
साहित्य लेखक 448.2  
रघा [रघी]  
आरंजित 291 14  
गंधयुक्त 273 13  
रघित 527 12  
सुरंजित 291 16

रघाना  
आरंजित करना 291 7  
रघित  
रघित 527.12 ⇌  
लिखित 448 26  
रघित करना  
रघित करना 527 9 ⇌  
रघित कृति  
कलाकृति 397 20  
रघित कृति 527 2 ⇌  
रघित कृति (दे. कलाकृति)  
रघित कृति 527 2  
रघिति  
रघित कृति 527 2  
रघेता  
ईश्वर 764 1  
कलाकार 397 16  
गढ़ैया 545 5  
रचेता 527 14 ⇌  
साहित्य लेखक 448 2  
सृष्टि रचेता 529 5  
रघ्य  
रघनीय 527 13  
रज  
घौंटी 95 3  
धूलि 100 4  
पाप 812 1  
मिट्टी 100 8  
रज़  
रंगरेज 578 2  
रज  
रज 130 9 ⇌  
रजोगुण 762 7  
रज (ब्रह्मा)  
त्रिदेव सूची 765 10  
रजअत परस्ती  
प्रतिक्रियावाद 884 17  
रजक  
घोबी 220 6  
रजगज  
तड़क भड़क 226 4  
रजगीर  
कूदू 187 7  
रजत  
घौंटी 95 3  
पचीसवाँ [पचीसवीं] 948.99  
रजताभ 289 59  
श्वेत 289 65  
रजत जयंती  
रजत जयंती 58 5 ⇌  
रजतता  
रजतिमा 289 17  
श्वेतिमा 289 19  
रजत पट  
फ़िल्म जगत 470 3  
सिनेमा परदा 606.4  
रजतपत्र  
सम्मान फलक सूची 857.15

**रजत पदक**  
रजत पदक 857.9 ⇐  
**रजत पात्र**  
चौदी बरतन 680 14  
**रजताद्रि**  
केलास शिखर 17 2  
**रजताभ**  
रजताभ 289.59 ⇐  
**रजताभता**  
रजतिमा 289 17  
**रजताभास**  
रजतिमा 289 17  
**रजतिम**  
रजताभ 289 59  
**रजतिमा**  
रजतिमा 289.17 ⇐  
श्वेतिमा 289 19  
**रजतोपम**  
रूपामाखी 92 10  
**रजन**  
राल 290 25  
**रज निवृत्ता**  
रज निवृत्ता 130 14 ⇐  
**रजनी**  
नील निर्यास 220 24  
रात 48 1  
लाक्षा 290 26  
हलदी 281 38  
**रजनीकर**  
घट्टमा 8 2  
**रजनी गंधा**  
उपवन पुष्प सूची 14 2  
नरगिस 14.19  
रात की रानी 14 23  
**रजनीघर**  
घट्टमा 8 2  
राक्षस 784 1  
**रजनी जल**  
ओस 90 11  
**रजनी मुख**  
रात पहला पहर 49 7  
**रजनीश**  
घट्टमा 8.2  
**रजनी हास्ता**  
हार सिंगार 13.27  
**रज्जब**  
हिजरी मास सूची 43 5  
**रजबहा**  
उप नहर 23 4  
**रजवाड़ा**  
करदाता राजा 882 7  
देशी राज्य (ब्रिटिश काल) 881.6  
राजा 882.6  
**रज विषयक**  
रजीय 130 12  
**रजस्क**  
धूलिमय 100.24

**रजास्थला**  
रजस्थला 130 13 ⇐  
**रजा**  
अनुमति 337 5  
अवकाश अनुमति 494.8  
विदा 1058 1  
स्वीकृति 337 1  
**रजाई**  
रजाई 593 15 ⇐  
**रजाई**  
लिहाफ़ 593 11  
**रजाकार**  
समाज सेवी 832.15  
सहयोग समर्पक 700 21  
**रजाणु**  
डिबाणु 130 7  
**रजामंद**  
सहमत 337 19  
**रजामंदी**  
अनुबध 339 1  
अनुमति 337 5  
सहमति 337 3  
**रजायस**  
अनुमति 337 5  
आज्ञा 347 1  
**रजायसु**  
सहमति 337 3  
**रजिस्टर**  
रजिस्टर 415 18 ⇐  
**रजिस्टर (अं)**  
लेखा पुस्तक 632 8  
सदस्य सूची 993 5  
**रजिस्टरी डाक**  
रजिस्टरी डाक 444 27 ⇐  
**रजिस्टर्ड आफिस (अं)**  
पंजीकृत कार्यालय 654 4  
**रजिस्ट्रार**  
रजिस्ट्रार 323 17 ⇐  
**रजिस्ट्रार (अं)**  
रजिस्ट्रार 323 17  
**रजिस्ट्री (अं)**  
रजिस्टरी डाक 444 27  
**रजीय**  
माटीय 100 25  
रजीय 130.12 ⇐  
**रजो-**  
रजीय 130 12  
**रजोगुण**  
त्रिगुण सूची 762 5  
रजोगुण 762.7 ⇐  
**रजोगुणी**  
रजोगुणी 762.15 ⇐  
**रजोनिवृत्ता**  
रज निवृत्ता 130 14  
**रज्जु**  
धेता 131 14  
डोर 569 9  
रस्सी 570.5

**स्नायु** 131 13  
**रज्जु कर्म**  
बटाई 567.9  
**रज्जु मार्ग**  
रज्जु मार्ग 1066 4 ⇐  
**रज्जु में सर्प का भ्रम**  
भ्रम दर्शन 342 3  
**रज्जु यान**  
रज्जु यान 1071.64 ⇐  
**रज्जना**  
ससिक्त होना 1008 23  
**रटत**  
जप 749 2  
रटत 356 4 ⇐  
**रट**  
लगन 493 4  
**रटन**  
रटत 356 4  
**रटनहारा [रटनहारी]**  
रटतू 356 5  
**रटना**  
रटना 356 14 ⇐  
**रटा [रटी]**  
रटा [रटी] 356 23 ⇐  
**रटाई**  
रटत 356 4  
**रटित**  
रटा [रटी] 356 23  
**रट्टा लगाना**  
रटना 356 14  
**रट्टू**  
रट्टू 356.5 ⇐  
**रट्टू तोता**  
रट्टू 356.5  
**रट्टू पीर**  
रट्टू 356 5  
**रट्टा**  
रटत 356 4  
**रट्टू**  
रट्टू 356 5  
**रट्टू तोता**  
रट्टू 356 5  
**रडर (अं)**  
कर्ण 1073 2  
विमान दिशा नियता 1074 25  
**रडर छांभा**  
कुदास 1073.26  
**रण**  
गति 1042 1  
युद्ध 905 4  
**रणक**  
आभूषण ध्वनि 296.7  
ध्वनि 294.1  
**रणकामी**  
युद्धेषुक 907 41  
**रणकारी**  
सैनिक 934 1

**रणकुशल सैनिक**  
प्रशिक्षित सैनिक 934.2  
**रणक्षेत्र**  
युद्ध क्षेत्र 905 6  
**रणबंधी**  
रणदुर्गा 776 8  
वीर स्त्री उपमान 396 4  
**रणछोक**  
कृष्ण 771 1  
युद्ध पलायित 912 23  
**रण तूर्ण**  
युद्ध तूर्ण 907 22  
**रणरक्षार**  
खड़खड़ाहट 297 7  
वीणा ध्वनि 296 14  
**रण त्याग**  
युद्ध पलायन 916 5  
**रण सुंदुभी**  
युद्ध डका 907 21  
**रणदुर्गा**  
रणदुर्गा 776.8 ⇐  
**रण हेवी**  
योगिनी 774 17  
**रणधीर**  
योद्धा 934 15  
रणवीर 396 9  
**रणन**  
ध्वनन 294 2  
**रण पिशाचिनी**  
योगिनी 774 77  
रणदुर्गा 776 8  
**रण पिशाची**  
रणदुर्गा 776 8  
**रण पोत**  
नीसेना पोत 1072 43  
बैटलशिप 1072 49  
**रण पोत समूह**  
नीसैनिक बेड़ा 1072 52  
**रणप्रिय**  
युद्ध प्रेमी 907 42  
**रण बाँकुरा**  
रणवीर 396 9  
**रण भूमि**  
युद्ध क्षेत्र 905 6  
**रण भेरी**  
युद्ध तूर्ण 907 22  
**रण रंग**  
युद्ध उत्साह 907 3  
**रण लक्ष्मी**  
रण लक्ष्मी 775.5 ⇐  
**रण वाद्य**  
युद्ध वाद्य 907 20  
**रण विद्या**  
युद्ध विद्या 907.28  
**रणवीर**  
योद्धा 934.15  
रणवीर 396.9 ⇐

## रण सज्जा

**रण सज्जा**  
 शस्त्र धारण 930 1  
**रणसिंगा**  
 नरसिंघा 461 60  
**रण स्वामी**  
 युद्ध सचालक 907.50  
 शिव 767 1  
**रणांगन**  
 युद्ध क्षेत्र 905 6  
**रणिता**  
 अंकृत 296 27  
**रणेश**  
 शिव 767 1  
**रणोत्कट**  
 महायोद्धा 934.20  
**रणोन्माद**  
 रणोन्माद 354.9 ⇌  
**रत**  
 ध्यानमग्न 331 11  
 प्रवृत्तिशील 502 9  
**रत-**  
 रात 48 1  
**रतजगा**  
 खोङ्किया 800 8  
 रतजगा 749 24 ⇌  
**रतता**  
 ध्यान 331 1  
 समाधिस्थता 755 4  
**रतन**  
 रत्न 96.1  
**रतनारा [रतनारी]**  
 लाल 289.60  
**रत नाराय**  
 कामदेव 773 12  
**रति**  
 आसक्ति 365 1  
 कामदेव पत्नी सूची 773.14  
 प्रवृत्ति 502 1  
 प्रसन्नता 381 1  
 प्रेम 368 1  
 रति 774.78 ⇌  
 रति संयोग 237 10  
 शोभा 226 1  
**रति (शुंगार)**  
 स्थायी भाव सूची 358 4  
**रतिक**  
 अत्यल्प 942 16  
 पुट मात्र 1008.25  
**रति क्रीका**  
 वर्जित दृश्य सूची 463.28  
**रतिगर**  
 प्रभात में 47.21  
**रतिगृह**  
 भग 152.13  
**रतिज मनोधिकार**  
 यौन मनोधिकार 353.14  
**रति वेध**  
 विष्णु 788.1

**रति देवी**  
 रति 774 78  
**रतिनाथ**  
 कामदेव 773 12  
**रतिप्रिय**  
 कामुक 237 14  
**रतिप्रियता**  
 कामुकता 237 6  
**रतिप्रिया**  
 दाक्षायणी 774 44  
**रति शंभु**  
 शूगारी नायक 456 1  
**रति भाव**  
 काम वासना 237 5  
**रतिमदा**  
 अप्सरा 782 2  
**रतिया**  
 रात 48 1  
**रतिरमण**  
 कामदेव 773 12  
**रतिराज**  
 कामदेव 773 12  
**रति लंपट**  
 कामुक 237 14  
**रतिवर**  
 कामदेव 773 12  
**रति व्यापार**  
 वैश्या वृत्ति 807 2  
**रति शक्ति**  
 पुसकता 238 2  
**रति संग**  
 रति संयोग 237.10  
**रति संयोग**  
 रति संयोग 237.10 ⇌  
**रतीश**  
 कामदेव 773 12  
**रती**  
 रती 962.53 ⇌  
**रती: 80**  
 छोटा तोला 962.44  
**रती: 96**  
 तोला 962 43  
**रती भर**  
 अत्यल्पत: 942.24  
 पुट मात्र 1008 25  
**रती रती**  
 घटुद्विशत: 29.36  
 पूर्णांशिक 940.13  
**रत्न**  
 उत्तमता उपमान सूची 313.4  
 त्रिरत्न 737 9  
 नगीना 228 51  
 रत्न 96.1 ⇌  
**रत्न (बे.)**  
 बहुमूल्य खनिज 92.2  
**रत्न आभा**  
 रत्न आभा 98.3 ⇌

**रत्नकीर्ति**  
 बोधिसत्व सूची 793 16  
**रत्नकूट**  
 रत्नागिरि 17 5  
**रत्न खान**  
 रत्न खान 92 15 ⇌  
**रत्नगर्भ**  
 कुबेर 779 4  
 विष्णु 768 1  
**रत्नगर्भा**  
 पृथ्वी 9 1  
**रत्नागिरि**  
 भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1  
 रत्नागिरि 17 5 ⇌  
**रत्न गुण**  
 रत्न गुण 98 1 ⇌  
**रत्नगृह**  
 स्तूप अस्थिकक्ष 255 11  
**रत्न त्रय**  
 त्रिरत्न 737 9  
**रत्न: दाना**  
 मणि 96 15  
**रत्न दामा**  
 रत्न माला 228 34  
**रत्नदामा (गर्ग संहिता)**  
 सीता माता 770 67  
**रत्न दोष**  
 रत्न दोष 98.2 ⇌  
**रत्न द्वीप**  
 प्रवाल द्वीप 97 5  
**रत्नद्वीप**  
 श्रीलंका 27 17  
**रत्न निधि**  
 खजन 126 24  
**रत्न पेटी**  
 रत्न मंजूषा 876.5  
**रत्नबाहु**  
 विष्णु 768 1  
**रत्न भार पद्धति**  
 रत्न भार पद्धति 962.62 ⇌  
**रत्न भार माप**  
 रत्न भार पद्धति 962 62  
**रत्न भार माप एकक**  
 रत्न भार माप एकक 958.9 ⇌  
**रत्न मंजूषा**  
 रत्न मंजूषा 676.5 ⇌  
**रत्नमाला**  
 दैत्य स्त्री सूची 783 21  
**रत्न माला**  
 रत्न माला 228.34 ⇌  
**रत्न राशि**  
 रत्न समूह 96 2  
 विशाल धनकोश 630.2  
**रत्न वृक्ष**  
 प्रवाल वृक्ष 97 8  
**रत्न वेधनी**  
 रत्न वेधनी 559.51 ⇌

**रत्न व्यापारी**  
 रत्न व्यापारी 566 13 ⇌  
**रत्न समूह**  
 रत्न समूह 96 2 ⇌  
**रत्न सूची**  
 रत्न सूची 96 5 ⇌  
**रत्नहाट**  
 रत्नहाट 566 12 ⇌  
**रत्नाकर**  
 बोधिसत्व सूची 793.16  
 रत्न खान 92 15  
 रत्न समूह 96 2  
 समुद्र 24 1  
**रत्नाकर (पूर्व नाम)**  
 वाल्मीकि 789 19  
**रत्नागार**  
 राज भंडार 670 4  
**रत्नाधिपति**  
 कुबेर 779 4  
**रत्नाभूषित**  
 अलंकृत 227 4  
**रत्नालंकृत**  
 अलंकृत 227 4  
**रत्नावली**  
 रत्न माला 228 34  
 रत्न समूह 96.2  
**रत्नेश**  
 कुबेर 779 4  
 समुद्र 24 1  
**रत्नोपल**  
 स्फटिक 283 20  
**रथ**  
 यान 1070 1  
 रथ 1071 46 ⇌  
 शरीर 139 1  
 सेना चार अंग सूची 932 10  
**रथ आरूढ़**  
 रथ आरूढ़ 1082 32 ⇌  
**रथ कटथा**  
 रथ समूह 1071 47  
**रथगर्भक**  
 पालकी 1071 24  
**रथ चालक**  
 सारथी 1079.10  
**रथ नायक**  
 सारथी 1079 10  
**रथपति**  
 सारथी 1079 10  
**रथ मार्ग**  
 रथ मार्ग 1063.13 ⇌  
**रथयंता**  
 सारथी 1079.10  
**रथ यात्रा**  
 रथ यात्रा 57 19 ⇌  
 रथ यात्रा 1088.10 ⇌  
**रथयज्ञ**  
 रथ समूह 1071.47

रधयान  
सारथी 1079 10  
रधवाह  
घोड़ा 127 35  
सारथी 1079 10  
रध शरीर  
रथ शरीर 1076 2 ⇐  
रध समूह  
रथ समूह 1071.47 ⇐  
रध झुत  
सारथी 1079 10  
रध सेना  
रथ सेना 932 14 ⇐  
रध सैनिक  
रथ सैनिक 934 9 ⇐  
रधहीन  
रथहीन 1082.34 ⇐  
रधाक्ष  
अक्ष दंड 1077 12  
रधाग्र  
अग्रयोद्धा 934 17  
महायोद्धा 934 20  
रधायतन  
रथ शरीर 1076 2  
रधारूढ़  
रथ आरूढ़ 1082 32  
रधारोही  
रथ आरूढ़ 1082 32  
रथिक  
रथ आरूढ़ 1082 32  
सारथी 1079 10  
रथी  
रथ आरूढ़ 1082 32  
रथ सैनिक 934 9  
सारथी 1079 10  
रथोत्सव  
रथ यात्रा 57.19  
रथ्य  
पहिया 1077 1  
रथ्या  
रथ मार्ग 1083.13  
रथ समूह 1071 47  
रध  
दौत 144 1  
निरस्त 338 39  
रधच्छद  
ओष्ठ 143.2  
रधन  
कुतरन 181.12  
दौत 144.1  
रधन 542.1 ⇐  
रधनक  
कुतरने वाला 181.56  
रधना  
धिकनाना 269 11  
रंदा करना 542 9  
रधनी  
उरंती (जंतु) 144.19

रध बदल  
रधो बदल 532 5  
रदा [रधी]  
रदा कृत 542 16  
रदाई  
रदन 542 1  
रदित  
रदा कृत 542 16  
रदिया  
रदा कर्मी 542 17  
रधी  
हाथी 127.38  
रधीक  
तुक 452 49  
सेना पृष्ठ 933 3  
रह  
निरस्त 338 39  
रहीकृत 526 17  
रह करना  
निरस्त करना 338 24  
रहा  
घिनाई 599 24  
तल 985 1  
रदा 559 31  
रहा 686 16 ⇐  
रहा लगाना  
सस्तारित करना 990.28  
रही  
अनुपयोगी 525.8  
निकृष्ट 314 5  
रही 526 13 ⇐  
रहीकृत 526 17  
रही (दे.)  
कूड़ा 214 3  
रही करना  
रही करना 526 16 ⇐  
रहीकृत  
रहीकृत 526 17 ⇐  
रही डेर  
घुरा 218.19  
रहीपन  
निकृष्टतमता 314 3  
रही बाजार  
रही बाजार 526 15 ⇐  
रही बाला  
रही व्यापारी 526 14  
रही व्यापारी  
रही व्यापारी 526.14 ⇐  
रधो बदल  
उथल पुथल 532 4  
रधो बदल 532.5 ⇐  
रधिया  
राधा 771.83  
रन  
कछार 25.26  
तटवर्ती प्रवाहहीन जल 21 13  
निम्न तट सूची 25 24  
युद्ध 905.4

रन 475.31 ⇐  
रन (अं)  
एक घाय 484.2  
रन 475 31  
रनकना  
अकृत होना 296 26  
रनबंका  
रणवीर 396 9  
रनर (अं)  
दौड़ाक 484 15  
रनवे  
रनवे 1069 20 ⇐  
रनवे (अं)  
रनवे 1069.20  
विमान दौड़ पट्टी 1063.32  
रनहारो  
चकवा 126 31  
रनियास  
जनानखाना 614.20  
रनी  
योद्धा 934 15  
वीर 396 6  
सानी नौद 556 3  
सैनिक 934 1  
रन्न  
निम्न तट सूची 25 24  
रपट  
ठलान 989 2  
प्रेषित समाचार 445 18  
पुर्लात 449.14  
समाचार 440 1  
रपटन  
फिसलन 1084 15  
फिसलाहट 1084 14  
रपट -1  
दूर गमन करना 1044 5  
फिसलना 1084 37  
रप 613 11  
रपटना [रपटनी]  
फिसलन युक्त 1084 47  
रपट्टा  
छोटा 635 7  
अपट्टा 914 10  
तमाचा 918 16  
दबोच 868 6  
फिसलन 1084 15  
रफ प्लान (अं)  
परिकल्प 520 6  
रफ बुक  
रफ बुक 415 19 ⇐  
रफ बुक (अं)  
रफ बुक 415 19  
रफल  
बदक 927 4  
लौई 585 16  
रफा  
कार्य समाप्ति 522 1  
खारिज़ 877 13

विवाद समाधान 877.4  
समाधान 334.6  
रफा दफा  
खारिज़ 877.13  
विवाद समाधान 877 4  
समाधानित 334.14  
रफादी  
तदूर गद्दी 109.8  
संविसे टुकड़ों वाली रफाई 593 16  
रफू  
रफूगरी 577 11  
रफूगरी  
रफूगरी 577.11 ⇐  
रफू चक्कर  
तीव्र पलायित 916.22  
पलायित 916 19  
रफू चक्कर होना  
तीव्र पलायन करना 916.13  
फरार होना 916.16  
रफ्त  
गमन 1091.1  
रफ्तार  
प्रवाह 1041 1  
सवेग 1042 10  
रफ्तार गुफ्तार  
आघरण 808 1  
रफ्तार रफ्तार  
मंदतः 1045.15  
शिथिल गति से 1045 17  
रव  
अल्लाह 764.12  
ईश्वर 764 1  
रवक  
रवक 416.28 ⇐  
रवक क्षीर  
रवक 416 28  
रवक छंद  
मुक्त छंद 452.2  
रवकः जुता  
बरसाती जुता 588 17  
रवक निर्यास  
रवक 416 28  
रवकः मुहर  
रवक मुहर 414.19 ⇐  
रवड़ी  
रवड़ी 203 31 ⇐  
रवत  
अभ्यास 303.5  
आदत 836.3  
रवर (अं)  
रवक 416 28  
रवर टपुव (अं)  
रफा नौका 1072.32  
रवर जौगी  
रफा नौका 1072.32  
रवर स्टैप (अं)  
रवकः मुहर 414 19

## रखाब

### रबाब

रबाब 461.74 ⇨

### रबाब वादक

रबाब वादक 461.75 ⇨

### रबाबिया

रबाब वादक 461.75

### रबी

फ़सल मौसम सूची 547.6

रबी फ़सल 547.8

### रबीउल अब्बल

हिजरी मास सूची 43.5

### रबीउल अब्बल: 12

बारह वफ़ात 57.50

### रबीउल आशिर

हिजरी मास सूची 43.5

### रबी फ़सल

रबी फ़सल 547.8 ⇨

### रब्ब

बंदिश 458.20

### रब्ब ज़ब्त

व्यवहार 703.2

सगति 696.1

### रब्बा

तोप गाड़ी 1070.18

### रब्बाब

रबाब 461.74

रबाब वादक 461.75

### रब्बी

धर्म शिक्षक 742.21

### रब्बी (अँ)

यहूदी धर्माधिकारी 744.45

### रब्बुल रबाब

अल्लाह 764.12

### रभस

हुतगामी [हुतगामिनी] 1044.7

येग 1042.9

### रभ

आनद 382.1

प्रसन्नताप्रद 381.9

प्रेम कर्ता 368.19

रभ 209.14 ⇨

### रभ (अँ)

रभ 209.14

### रभक

प्रेम कर्ता 368.19

प्रेमी 368.2

लहर 1040.17

### रभकना

झूलना 1034.19

झोटा लेना 1034.20

### रभज़ान

रोज़े 57.54

हिजरी मास सूची 43.5

### रभज़ानी ईब

ईदुल फ़ितर 57.46

### रभण

आसक्ति 365.1

क्रीड़ाप्रिय 469.16

जौघ 149.13

पर्यटन 1090.6

प्रेमी 368.2

मनोरंजन कर्म 469.2

रति सयोग 237.10

विचरण 1085.1

यिलास 363.6

### रभणक

आनंदशील 382.19

क्रीड़ाप्रिय 469.16

विचरण कर्ता 1085.2

यिलासी 363.20

### रभण्ण

पत्नी 803.6

प्रेमिका 368.3

### रभण्णी

प्रेमिका 368.3

शृंगारी नायिका 456.6

सुंदर स्त्री 157.2

स्त्री 236.3

### रभण्णीक

सुंदर 157.7

### रभण्णीय

विचरण्णीय 1085.12

सुंदर 157.7

### रभण्णीयता

सुन्दरता 157.1

### रभता [रभती]

अलमस्त 382.23

आनंदशील 382.19

छलिष्णु 1090.42

विचरण कर्ता 1085.2

### रभता जोगी

साधु संन्यासी 790.1

### रभता योगी

परिव्राजक संन्यासी 790.14

### रभता राम

परिव्राजक संन्यासी 790.14

### रभति

कामदेव 773.12

शृंगारी नायक 456.1

### रभन

क्रीड़ाप्रिय 469.16

### रभनक

क्रीड़ाप्रिय 469.16

विचरण कर्ता 1085.2

### रभना

आनंदित होना 382.11

आमोद यात्रा करना 1085.11

आवासित करना 618.17

तल्लीन होना 331.9

पर्यटन करना 1090.40

प्रेम करना 368.13

मनोरंजन करना 469.9

विचरण 1085.10

सम्मोहित होना 367.4

### रभल

रभल 262.15 ⇨

### रभा

पत्नी 803.6

लक्ष्मी 775.1

शोभा 226.1

संपत्ति 624.1

### रभा [रमी]

आनंदित 382.17

आसक्त 365.5

लुब्ध 359.30

यशीकृत 758.41

सम्मोहित 367.6

### रभाकत

विष्णु 768.1

### रभाना

प्रेमानुरक्त करना 368.14

सम्मोहन करना 367.5

### रभापति

विष्णु 768.1

### रभित

अभिमतंत्रित 758.40

आनंदित 382.17

आसक्त 365.5

सम्मोहित 367.6

### रमी

रमी 478.17 ⇨

### रमी (अँ)

रमी 478.17

### रमूज़

तिरछी चित्तभ्रं 284.6

### रमेश

विष्णु 768.1

### रमेश्वर

विष्णु 768.1

### रमीती

रमीती 643.14 ⇨

### रमीया

ईश्वर 764.1

विष्णु 768.1

### रम्माल

ज्योतिषी 261.2

### रभ्य

बयार 85.14

विचरण्णीय 1085.12

सुंदर 157.7

### रभ्य रचना

ललित निबंध 449.16

### रभ्य लेख

ललित निबंध 449.16

### रभ्य

अविराम गति 1049.2

गति 1042.1

प्रवाह 1041.1

संघलता 1037.3

संघलन 1037.4

### ररक

कराह 386.5

### ररकना

कराहना 386.19

### ररा [ररीं]

गिरगिरिता [गिरगिरिता] 350.21

### रराना

एक होना 698.8

परिचय बढाना 704.17

संचलित होना 1037.13

सम्मिश्रित होना 1008.19

### ररली

जुलूस 1088.7

### ररल्ला

जुलूस 1088.7

प्रबल आक्रमण 914.7

सवेग 1042.10

### ररय

गमन 1091.1

ध्वनि 294.1

मंद ध्वनि 294.7

### ररयण

कोँसा 94.2

भौंड 473.16

संचल 1037.19

### ररयना

ध्वनि करना 294.15

रावण 784.12

### ररयभा

जावक पत्र 1054.7

पास 622.15

### ररयी

अभ्यस्त 303.19

प्रवाहशील 1041.8

प्रयीण 303.22

सम्मिश्रित 1008.26

### ररया

अनाज खड 192.1

कण 938.2

कणी 938.3

धातु पिंड सूची 976.12

ररा 192.8 ⇨

### ररयानगी

गमन 1091.1

प्रयाण 907.25

प्रेषण 1054.1

बिदायगी 800.31

यान अवतारण 1080.8

विदा 1058.1

### ररयानगी पत्र

जावक पत्र 1054.7

### ररयाना

गत 1091.8

प्रेषित 1054.14

### ररयाना करना

भेजना 1054.10

### ररयाना होना

जाना 1091.6

यान प्रस्थान करना 1082.26

### ररयानी

गति 1042.1

गतिशीलता 1042.2

जल प्रवाह 219  
प्रवाह 1041 1  
मन तरंग 351 6  
संघलता 1037 3

रथानीदार  
प्रवाहशील 1041 8

रथाब  
रथाब 461 74

रथायत  
कहावत 424 12  
धर्म विधि 747 3  
परपरा 795 1

रथायती  
परिपाटी अनुकुल 514 18

रथारथी  
गमन काल 1091 2  
जल्दबाजी 496 4  
भगदड़ 916 8  
भागदौड़ 1084 16  
शीघ्रता 496 1  
हड़बड़ी 496 5

रथि  
बारह उपमान सूची 948 43  
रथिवार 46 3  
सार्धपति 657 14  
सूर्य 8 1

रथिकुल मणि  
राम 770 1

रथिज  
अश्विनी कुमार 773 3

रथिजा  
यमुना 20.18

रथि नंदन  
कर्ण 771 47

रथिनेत्र  
विष्णु 768 1

रथि पथ  
राशिघक्र 4 4

रथिप्रिय  
नीम 13 12  
रक्त कमल 14 6

रथि मणि  
आतशी शीशा 283 7

रथि मार्ग  
सूर्यक्रांति वृत्त 5 10

रथि मार्गः उत्तर ध्रुव  
रथिमार्ग उत्तर ध्रुव 5 14

रथिमार्गः उत्तर ध्रुव  
रथिमार्ग उत्तर ध्रुव 5.14 ⇌

रथिमार्गः दक्षिण ध्रुव  
रथिमार्ग दक्षिण ध्रुव 5.15 ⇌

रथि मार्गः दक्षिण ध्रुव  
रथिमार्ग दक्षिण ध्रुव 5 15

रथिलोचन  
शिव 767 1

रथिलीह  
तौबा 94.8

रथि वंश  
सूर्य वंश 731 23

रथिवार  
रथिवार 46.3 ⇌

रथि वासर  
रथिवार 46.3

रथिशा  
कार्य विधि 514 1

गति 1042 1  
गतिशीलता 1042 2

प्रवाह 1041 1  
संघलता 1037 3

रथि शायन  
दक्षिणायन 5 18

रथि सारथी  
अरुण 777.14

रथिसुत  
वैवस्वत मनु 788 5

शनि ग्रह 7 8  
सुग्रीव 781 17

रथीन्द्र संगीत  
रथीन्द्र संगीत 457 26 ⇌

रथीपु  
कामदेव 773 12

रथेदार  
दरदरा [दरदरी] 540 18

रथैया  
आघरण 808 1  
कार्य विधि 514.1

रथाना  
रस्सी 570 5

रथशा  
भाजी रसा 201 24

रथक  
ईर्ष्या 709 1

रथिमि  
अरा 1077 7

अर्थ व्यास 972 14  
डोरी 570 1

प्रकाश किरण 288 1  
रस्सी 570 5

लगाम 555 17

रस  
अमृत 177 1

आनंद 382 1  
उत्साह 491.1

काव्य रस 455 1  
गोद 1012 7

छह उपमान सूची 948 28  
जल 88 1

तरल पदार्थ 79 5  
निर्यास 84 7

निष्कर्ष प्रकार सूची 84 2  
पारा 94.9

फल रस 208 5  
मनोरंजन 469 1

रस 84.3 ⇌  
रस 280.7 ⇌

रसायन 87 1  
रस्क 202.35

रुचि 400 1  
वीर्य 130 10

वृक्ष निर्यास 84 8  
शरीरव्य 129.6

स्वाद 275.1

रस (जिह्वा)  
इंद्रियार्थ सूची 268 10

रसः अनुचित वर्णन  
रसाभास 455 9

रसक  
संग बसरा 99 8

रसकामी  
स्वाद लोलुप 275 19

रसः कारण  
विभाव 358 7

रसः कार्य  
अनुभाव 358 6

रस कैलि  
विनोद 385 1  
विलास 363 6

रसकोरा  
रसगुल्ला 203 32

रस क्रिया  
धातु सगलन 565 11

रस खर्पर  
संग बसरा 99 8

रस खींचना  
अचित करना 83.12

रस गंधक  
गंधक 92 8

रस गुनी  
कल्प प्रेमी 400 17

रसगुल्ला  
रसगुल्ला 203 32 ⇌

रस गोला  
रसगुल्ला 203 32

रसधन  
रसपूर्ण 84 17

रसधन  
सुहा. 281 33

रस फुआना  
अचित करना 83.12

रस ध्यावन  
आयण 83.4

रसज  
गुरु 280.14  
हारमोन 129 9

रसज्ञ  
कला प्रेमी 400.17

भावज्ञ 358 27  
रसायनज्ञ 87.5

शिय 767.1  
स्वादज्ञ 275.18

रसज्ञा  
जिह्वा 143.7

रसज्येष्ठ  
शृंगार रस 455.20

रस टपकवाना  
अचित करना 83 12

रस ताल  
एकताल 458.39

रसद  
अनाज 187.1

आहार पदार्थ 166 1  
मौग पूर्ति 656 5

रसद 656.10 ⇌  
सीधा खाना 197.5

रसद विभाग  
रसद विभाग 656.11 ⇌

रसदार  
रसेदार 201 26  
स्वादिल 275.20

रस दोष  
रस दोष 455.6 ⇌

रसाभास 455.9

रस द्रव्य  
रसायन 87 1

रस धातु  
पारा 94 9

रसना  
करधनी 228.7

जिह्वा 143 7  
रस्सी 570 5

लगाम 555 17  
शुंखला 569.28

रस निष्कर्षण  
सारांशान 449 13

रस निष्पत्ति  
रसानुभूति 455.4

रसनेंद्रिय  
जिह्वा 143.7

रस परिपाक  
रस परिपाक 455.7 ⇌

रसपूर्ण  
कलापूर्ण 402 3  
मनोरंजनपूर्ण 469 11

रसपूर्ण 84.17 ⇌  
स्वादिल 275.20

रसपूर्णता  
कलापूर्णता 402.1

रसप्रद  
रोचक 400 12

रस प्रबंध  
नाटक आलेख 466 4  
प्रबंध काव्य 451 11

रसः प्रमुख अंग  
स्थायी भाव 358 3

रस प्रेम  
रसिकता 837 9

रस प्रेमी  
विलासी 363.20

स्वाद लोलुप 275.19

## रस बत्ती

**रस बत्ती**  
 बारुद. पलीता 927.21  
**रस बाधा**  
 रस दोष 455.6  
 रस विघ्न 455.8  
**रसबोध**  
 रसानुभूति 455.4  
**रस भंग**  
 रस दोष 455.6  
**रसभरी**  
 खाद्य फल सूची 190.2  
 मकोय 190.30  
**रसः भात**  
 रसियाव 202.6  
**रस भीना**  
 रसपूर्ण 84.17  
 स्वादिष्ठ 275.20  
**रसभोग**  
 कलानुभूति 399.12  
**रसभोगी**  
 आनदशील 382.19  
**रसम**  
 रसम 201.23 ⇨  
**रसमय**  
 प्रेमपूर्ण 368.17  
 मीठा [मीठी] 280.30  
 रोचक 400.12  
 स्वादिष्ठ 275.20  
**रस मलाई**  
 रस मलाई 203.36 ⇨  
**रसमत्ता [रसमत्ती]**  
 माधुर्यपूर्ण 157.9  
**रस यामिनी**  
 मधु यामिनी 800.33  
**रसयुक्त**  
 स्वादयुक्त 275.15  
**रसरंग**  
 विलास 363.6  
**रसरंग प्रेमी**  
 विलासी 363.20  
**रसरार**  
 रस्सा 570.7  
**रसराराज**  
 पारा 94.9  
 शृंगार रस 455.20  
**रसराना**  
 आनदशील 382.19  
**रसल**  
 स्वादिष्ठ 275.20  
**रस लेना**  
 स्वाद आनंद लेना 275.12  
**रस लोभी**  
 स्वाद लोलुप 275.19  
**रस लोलुपता**  
 स्वाद लोलुपता 275.9  
**रसलौह**  
 पारा 94.9

**रसवंत [रसवंती]**  
 आनदप्रद 382.18  
 आनंदशील 382.19  
 कला प्रेमी 400.17  
 प्रेमपूर्ण 368.17  
 माधुर्यपूर्ण 157.9  
 मीठा [मीठी] 280.30  
 रसपूर्ण 84.17  
 रसिक 837.18  
 रोचक 400.12  
 विनोदी 385.13  
 स्वादज्ञ 275.18  
 स्वाद लोलुप 275.19  
 स्वादिष्ठ 275.20  
**रसवंती**  
 प्रेमपात्रा 369.5  
**रसवती**  
 प्रेमपात्रा 369.5  
**रसयत्ता**  
 कलापूर्णता 402.1  
**रस बाद**  
 गपराप 435.6  
 छेड़छाड़ 385.7  
 नोकझोंक 385.8  
 बतरस 435.8  
**रसवान [रसवती]**  
 आनंदशील 382.19  
 कला प्रेमी 400.17  
 प्रेमपूर्ण 368.17  
 माधुर्यपूर्ण 157.9  
 मीठा [मीठी] 280.30  
 रसपूर्ण 84.17  
 रसिक 837.18  
 स्वादिष्ठ 275.20  
**रस विघ्न**  
 रस विघ्न 455.8 ⇨  
**रस विद्या**  
 रासायनिकी 87.4  
**रस व्यंजक सामग्री**  
 काव्य शास्त्रः भाव 358.2  
**रसव्य**  
 प्लाव्या 129.5  
 शरीरव्य 129.6  
 हारमोन 129.9  
**रसरशील**  
 कल्पनाशील 308.15  
**रस शोधन**  
 पारा शोधन 219.5  
**रस शोषक**  
 अवरशोषक 1002.30  
**रस संस्कार**  
 पारा शोधन 219.5  
**रसः सहकारी भाव**  
 संचारी भाव 358.5  
**रस सार्थक**  
 रसायनज्ञ 87.5  
**रस सिद्धि**  
 कीमियागरी 87.6

रस परिपाक 455.7  
**रसहीन**  
 अकाव्यात्मक 451.30  
 अरसिक 838.15  
 अरोचक 401.10  
 अस्वादिष्ठ 275.21  
 कल्पनाहीन 308.16  
 मज्जाहीन 132.21  
*रसहीन 84.18 ⇨*  
 स्वादहीन 275.16  
 हासहीन 384.15  
**रसहीनता**  
 अरसिकता 838.7  
 अरोचकता 401.1  
 कल्पनाहीनता 308.7  
 जलहीनता 89.4  
 स्वादहीनता 275.5  
**रसौ**  
 पहुँचाने वाला 1053.17  
**रसा**  
 अंगूर 190.3  
 आकाश गंगा 1.14  
 जिह्वा 143.7  
 नदी 20.1  
 पृथ्वी 9.1  
 सूप 201.22  
**रसाई**  
 पैठ 1094.14  
 प्रवेश्यता 1094.2  
**रसाढ्य**  
 रसपूर्ण 84.17  
**रसातल**  
 सात पाताल सूची 258.8  
**रसात्मक**  
 कलापूर्ण 402.3  
 काव्यात्मक 451.29  
**रसानुभूति**  
 कलानुभूति 399.12  
*रसानुभूति 455.4 ⇨*  
 स्वाद 275.1  
**रसानुभूति सूची**  
*रसानुभूति सूची 455.5 ⇨*  
**रसाभाव**  
 रसानुभूति सूची 455.5  
**रसाभास**  
*रसाभास 455.9 ⇨*  
**रसाभोग**  
 कलानुभूति 399.12  
**रसाम्ल**  
 दूक 277.13  
**रसायन**  
 कीमियागरी 87.6  
 धातु दहन 108.3  
*रसायन 87.1 ⇨*  
 रासायनिकी 87.4  
 लहसुन 281.29  
**रसायन धिकित्सा**  
*रसायन धिकित्सा 172.18 ⇨*

**रसायनज्ञ**  
*रसायनज्ञ 87.5 ⇨*  
**रसायन तंत्र**  
 आयुर्वेद आठ अंग सूची 172.7  
**रसायन वर**  
 लहसुन 281.29  
**रसायनविद्य**  
 रसायनज्ञ 87.5  
**रसायन शास्त्र**  
 रासायनिकी 87.4  
**रसायन शास्त्री**  
 रसायनज्ञ 87.5  
**रसायनी**  
 कीमियागरी 87.7  
 धिरयीवन औषध 176.10  
**रसाल**  
 आनदप्रद 382.18  
 आम 190.8  
 माधुर्यपूर्ण 157.9  
 मीठा [मीठी] 280.30  
 रसपूर्ण 84.17  
 रोचक 400.12  
 लोबान 274.27  
 दाल 274.28  
 स्वादिष्ठ 275.20  
**रसालता**  
 मिठास 280.1  
**रसालय**  
 आम वृक्ष 13.5  
**रसाला**  
 अंगूर 190.3  
 किशमिश 191.5  
 जिह्वा 143.7  
 श्रीखंड 203.42  
**रसाली [रसालिनी]**  
 प्रेमपूर्ण 368.17  
 माधुर्यपूर्ण 157.9  
 रसिक 837.18  
**रसावर**  
 रसियाव 202.6  
**रसावरोध**  
 फोक 526.2  
**रसादेष्ट**  
 गंधा बिरोजा 1012.10  
**रसाव्या (प्र)**  
 प्लाव्या 129.5  
**रसाशी**  
 घटोरा [घटोरी] 181.50  
 मद्यसक्त 209.44  
**रसास्वादन**  
 आस्वादन 275.6  
 कला उपभोग 399.1  
**रसास्वादी**  
 स्वादज्ञ 275.18  
**रसिक**  
 आनदशील 382.19  
 कला प्रेमी 400.17  
 कामुक 237.14



प्रेमी 368 2  
 रसिक 837.18 ⇨  
 विनोदी 385 13  
 सारस 126 74  
 सुंदर 157 7  
 स्वादझ 275 18  
 स्वाद लोलुप 275 19  
**रसिक गण**  
 कला उपभोक्ता गण 399 3  
**रसिक जन**  
 कला उपभोक्ता गण 399 3  
**रसिकता**  
 रसिकता 837 9 ⇨  
 सुरुचि 400 5  
 स्वाद लोलुपता 275 9  
**रसिक विहारी**  
 कृष्ण 771 1  
**रसिक समाज**  
 कला उपभोक्ता गण 399.3  
**रसिका**  
 जिहवा 143 7  
 मैना 126 67  
 शरीरव्य 129 6  
 श्रीखंड 203 42  
**रसिप्र**  
 जूसर 83 6  
**रसिद (प्र)**  
 शरीर प्रथि 132 8  
**रसिया**  
 आनदशील 382 19  
 कला प्रेमी 400 17  
 कामुक 237 14  
 प्रेमी 368 2  
 रसिक 837 18  
 रसिया 457 40 ⇨  
 विनोदी 385 13  
 स्वाद लोलुप 275.19  
**रसियापन**  
 रसिकता 837 9  
**रसियाय**  
 रसियाय 202.6 ⇨  
**रसी**  
 कला प्रेमी 400 17  
 सज्जी 87 17  
**रसीद**  
 आवक 1054 8  
 आवक पत्र 1054.9  
 प्राप्ति 837 2  
 रसीद 632.25 ⇨  
**रसीद बुक**  
 रसीद बुक 415.23 ⇨  
**रसीय**  
 स्वादीय 275 14  
**रसीय अवस्था**  
 तरल अवस्था 79 4  
**रसीला [रसीली]**  
 घंघल 860.24  
 प्रेमपूर्ण 368.17

बाँका [बाँकी] 860 23  
 माधुर्यपूर्ण 157 9  
 रसपूर्ण 84.17  
 रसिक 837 18  
 रसेदार 201 26  
 रोधक 400 12  
 सजा धजा [सजी धजी] 226 13  
 स्वादिष्ठ 275.20  
**रसीलापन**  
 स्वादिष्ठता 275 10  
**रसुख**  
 प्रताप 849 5  
 प्रवेश्यता 1094.2  
**रसुम**  
 रिश्वत 865 9  
**रसूल**  
 पैगबर 791 1  
**रसूली**  
 पैगबर विषयक 791.29  
**रसूलुल्लाह**  
 पैगबर 791 1  
**रसेदार**  
 रसेदार 201 26 ⇨  
**रसेदार भाजी**  
 रसेदार भाजी 201 20 ⇨  
**रसेदार मांस व्यंजन**  
 रसेदार मांस व्यंजन 206 31 ⇨  
**रसेश**  
 कृष्ण 771 1  
 पारा 94 9  
**रसोइया**  
 रसोईदार 195.7  
**रसोई**  
 पक्का खाना 197 4  
 रसोई घर 195 1  
**रसोई: अध्यक्ष**  
 रसोई: अध्यक्ष 195.9 ⇨  
**रसोई करना**  
 रसोई करना 195 43 ⇨  
**रसोई कर्म**  
 रसोई कर्म 195.6 ⇨  
**रसोई गैस**  
 रसोई गैस 110.2 ⇨  
**रसोई घर**  
 रसोई घर 195.1 ⇨  
**रसोईदार**  
 रसोईदार 195.7 ⇨  
**रसोईदारिन**  
 रसोईदारिन 195.8 ⇨  
**रसोईदारी**  
 रसोई कर्म 195.6  
**रसोई पात्र समष्टि**  
 बारदाना 560 1  
**रसोई बरवार**  
 परोस कर्मी 183.20  
**रसोत्पादन होना**  
 रसोत्पादन होना 468.33 ⇨

**रसोद्रेक**  
 रसानुभूति 455.4  
**रसोट**  
 रसियाय 202 6  
**रसौली**  
 रसौली 166 7 ⇨  
**रस्क**  
 रस्क 202.35 ⇨  
**रस्क (अँ)**  
 रस्क 202 35  
**रस्ट (अँ)**  
 करखा 549 8  
**रस्ता**  
 मार्ग 1063 1  
**रस्म**  
 नेग 640 7  
 प्रथा 795 9  
 विवाह रस्म रिवाज 800 1  
 संस्कार 798 1  
 सामान्यता 311 1  
**रस्मन**  
 प्राय 73 7  
**रस्म पगड़ी**  
 रस्म पगड़ी 253.8 ⇨  
**रस्म मिलनी**  
 बरयात्रा स्वागत 800.44  
**रस्मी**  
 औपचारिकतापूर्ण 184 10  
 पारंपरिक 795 13  
 प्रथागत 795.15  
**रस्मी लिबास**  
 औपचारिक वेश 589 12  
**रस्य**  
 शरीरव्य 129 6  
**रस्य [रस्या]**  
 मीठ, [मीठी] 280 30  
**रस्सा**  
 रस्सा 570 7 ⇨  
**रस्साकरी**  
 रस्साकरी 477 13 ⇨  
**रस्सी**  
 अलगनी 1024.6  
 कमद 613 14  
 झुला रस्सी 1034.7  
 नियंत्रण उपमान सूची 899.27  
 रस्सी 570 5 ⇨  
 रस्सी कूद 477.14  
 लगाम 555 17  
**रस्सी आदि: बट**  
 अलबेट 975 10  
**रस्सी कूद**  
 रस्सी कूद 477.14 ⇨  
**रस्सी सूँटा**  
 मकरी 1073.36  
**रस्सी खोलना**  
 लंगर उठाना 1080 35  
**रस्सी गाड़ी**  
 रज्जु यान 1071.84

**रस्सी झुला**  
 रस्सी झुला 1034.5 ⇨  
**रस्सी पुल**  
 झुला पुल 1065.11  
**रस्सी फंदा**  
 फेक फंदा 1013 10  
**रस्सी: बड़ी जाली**  
 खरिया 673 19  
**रस्सी मार्ग**  
 रज्जु मार्ग 1066 4  
**रस्सी सूची**  
 रस्सी सूची 570.6 ⇨  
**रहकला**  
 छोटी गाड़ी 1071.30  
 तोप गाड़ी 1070 18  
**रहघटा**  
 भोग लिप्सा 363.4  
**रहैट**  
 रहैट 19.13 ⇨  
**रहैट: घड़िया**  
 रहैट घड़िया 19 14 ⇨  
**रहैट चक्रण**  
 धुरी परियकरण 1033 7  
**रहैट चालक**  
 रहैट चालक 19 24 ⇨  
**रहैटा**  
 घरखा 562.6  
**रहैटी**  
 ओटनी 582 1  
**रहगुजर**  
 मार्ग 1063 1  
**रहघटा**  
 स्वाद लोलुपता 275.9  
**रह जाना**  
 भूल होना 498.5  
**रहट**  
 रहैट 19 13  
**रहका**  
 ठेला 1071 6  
 रहकी 1071 41  
**रहकी**  
 ठेला 1071 6  
 रहकी 1071.41 ⇨  
**रहकी वाला**  
 ठेले वाला 1071.7  
**रहन**  
 निवासिता 616 1  
 बधक 633 18  
**रहन सहन**  
 आचरण 808 1  
 जीवन स्तर 825.1  
**रहना**  
 अवशिष्ट होना 939.10  
 जीवनयुक्त होना 246.10  
 नारा न होना 533.8  
 समाप्त न हो पाना 523 5  
 स्थित होना 1020.6

## रहनुमा

**रहनुमा**  
नेता 346.2  
मार्ग प्रदर्शक 1098.4

**रहनुमाई**  
नेतृत्व 346.1  
मार्ग प्रदर्शन 1098.3

**रहने वाला**  
निवासी 618.13  
भूल आवासी 618.27

**रहने वाला होना**  
निवासी होना 616.12

**रहपटा**  
तमाचा 918.16

**रहबर**  
नेता 346.2  
मार्ग प्रदर्शक 1098.4

**रहबरी**  
मार्ग प्रदर्शन 1098.3

**रहम**  
दया 834.1

**रहमान**  
अल्लाह 764.12

**रहल**  
पुस्तक आधार 596.10

**रहवाल**  
अश्वगति 1084.23  
निवासी 616.13

**रहयासी**  
निवासी 616.13

**रहसि**  
एकांत में 697.20

**रहस्य**  
एकांत स्थान 697.4  
गुर 517.4  
घमत्कार 379.4  
रहस्य 823.7 ⇌

**रहस्य कर्म**  
ईसाई संस्कार 798.30

**रहस्य खोलना**  
रहस्य खोलना 822.16 ⇌

**रहस्य जानना**  
रहस्य जानना 822.15 ⇌

**रहस्यज्ञ**  
मर्मज्ञ 305.35  
रहस्य ज्ञाता 822.23

**रहस्य ज्ञाता**  
रहस्य ज्ञाता 822.23 ⇌

**रहस्य ज्ञान**  
रहस्य ज्ञान 822.5 ⇌

**रहस्य ज्योति**  
बढ़वा दीप्ति 287.18

**रहस्य न खोलना**  
रहस्य न खोलना 823.10 ⇌

**रहस्यपूर्ण**  
अति प्राकृतिक 762.11  
गुह्य विद्या विषयक 758.38  
भुतहा [भुतही] 759.20  
रहस्यपूर्ण 823.13 ⇌

**रहस्यपूर्ण कार्य**  
लीला 506.8

**रहस्यपूर्णता**  
विलक्षणता 312.3

**रहस्यपूर्वक**  
गुप्तता 824.29

**रहस्य प्रकटन**  
रहस्योद्घाटन 822.6

**रहस्य बताना**  
रहस्य खोलना 822.16

**रहस्यमयता**  
भुतहापन 759.6

**रहस्य रक्षा**  
रहस्य रक्षा 823.8 ⇌

**रहस्यवाद**  
ज्ञेयवाद 760.7

**रहस्यवादी**  
गुह्य विद्या विषयक 758.38

**रहस्य विद्या**  
गुह्य विद्या 758.1

**रहस्य शास्त्र**  
गुह्य विद्या 758.1

**रहस्यहीन**  
रहस्यहीन 822.22 ⇌

**रहस्यहीनता**  
रहस्यहीनता 822.4 ⇌

**रहस्यात्मक**  
रहस्यपूर्ण 823.13

**रहस्यात्मकता**  
भुतहापन 759.6

**रहस्योक्ति**  
रहस्योक्ति 823.6 ⇌

**रहस्योद्घाटक**  
रहस्योद्घाटक 822.26 ⇌

**रहस्योद्घाटन**  
रहस्योद्घाटन 822.6 ⇌

**रहा [रही]**  
अवशिष्ट 954.17  
अवशिष्टांश 939.17  
असमाप्त 943.11  
घटान फल 954.9  
बचाया [बचाई] 645.7  
रक्षित 908.19  
संकटमुक्त 910.9

**रहाट**  
भूत 786.1

**रहा था [रही थी]**  
था [थी] 65.2

**रहा सहा [रही सही]**  
बचाया [बचाई] 645.7

**रहित**  
रहित 1007.3 ⇌

**-रहित**  
रहित. प्रत्यय सूची 1007.6

**रहितः उपसर्ग सूची**  
रहित उपसर्ग सूची 1007.5 ⇌

**रहिततः**  
रहिततः 1007.4 ⇌

**रहितता**  
रहितता 1007.1 ⇌

**रहितः प्रत्यय सूची**  
रहित प्रत्यय सूची 1007.6 ⇌

**रहित होना**  
रहित होना 1007.2 ⇌

**रहिवास**  
निवासिता 616.1

**रहीम**  
अल्लाह 764.12  
दयालु 834.12

**रौक़**  
असमतल भूमि 987.2

**रौंग**  
अड़वाल 1073.22  
रौंगा 94.13

**रौंगा**  
अच्छातु सूची 93.6  
चेपय्य सूची 1012.4  
रौंगा 94.13 ⇌

**रौंगा: पानी**  
मुलम्मा 292.8

**रौजना**  
झलाई करना 565.22

**रौंटा**  
टिटिहरी 126.42

**रौंड**  
विधया 804.15

**रांदेवू (फ़ां)**  
अभिसार स्थल 237.2

**रौंध**  
रैंधाई 195.18  
रसोई कर्म 195.6

**रौंधना**  
आरभ करना 994.11  
चूल्हे पर चढ़ाना 195.47  
परिपाचित करना 195.50  
रसोई करना 195.43  
रौंधना 195.49 ⇌

**राइट एंगल (अं)**  
समकोण 970.2

**राइटहैंड ग्राइविंग**  
राइटहैंड ग्राइविंग 1067.7 ⇌

**राइटहैंड ग्राइविंग (अं)**  
राइटहैंड ग्राइविंग 1067.7

**राइटिंग ऑफ (अं)**  
अपलेखन 639.3

**राइटिंग बोर्ड (अं)**  
लिपि पटल 415.2

**राइक्रल (अं)**  
बंदूक 927.4

**राइस प्लेट (अं) (वर्षिण भारत)**  
पुरी थाली 199.9

**राई**  
तिहलन सूची 196.14  
राई 196.19 ⇌

**राई पानी**  
कौजी 208.13

**राई भर**  
अत्यल्पत 942.24

**राई रती**  
अत्यल्पत 942.24

**राउंड अबाउट (अं)**  
गोल चौराहा 1064.6

**राउ**  
राजा 882.6

**राउत**  
क्षत्रिय 731.19  
राजा 882.6

**राउर**  
आप का 316.26

**राउरा [राउरी]**  
आप का 316.26

**राका**  
पूर्णिमा रात 48.6  
शुद्ध पूर्णिमा 44.26

**राकापति**  
चंद्रमा 8.2  
पूर्ण चंद्रमा 8.5

**राकेट**  
अंतरिक्ष यान 1075.6  
राकेट 927.19 ⇌  
राकेट 1075.1 ⇌

**राकेट इंजन**  
राकेट इंजन 1078.9 ⇌

**राकेट उत्तारण**  
राकेट उत्तारण 1081.20 ⇌

**राकेट क्षेपण**  
राकेट उत्तारण 1081.20

**राकेट चालक**  
राकेट चालक 1081.41 ⇌

**राकेट चालन**  
राकेट संचालन 1081.40

**राकेट छूटना**  
अंतरिक्ष गमन करना 1081.49

**राकेटन**  
राकेट संचालन 1081.40

**राकेट बम**  
राकेट बम 1075.5 ⇌

**राकेट यान**  
अंतरिक्ष यान 1075.6

**राकेटर (अं)**  
राकेट चालक 1081.41

**राकेट संचालन**  
राकेट संचालन 1081.40 ⇌

**राकेटाग्र**  
वारहेड 1075.4

**राकेस**  
चंद्रमा 8.2  
पूर्ण चंद्रमा 8.5

**राक्षस**  
असुर 783.6  
देव योनि सूची 772.37  
राक्षस 784.1 ⇌

**राक्षस (दे.)**  
असुर आदि 783.3

राक्षस (प्राचीन)	मिट्टी 100.8	राग गायन	रागहीन
रक्षक 908 20	राख 106.15 ⇨	राग गायन 460.37 ⇨	अनासक्त 366.5
राक्षस आदि पुरुष	राख का डेर	राग गायन करना	संगीतहीन 457.44
हेति 784 22	पूर्ण दग्ध 108 16	राग गायन करना 460.44 ⇨	रागहीनता
राक्षसः उत्पत्ति	राखः टीका	राग गायन शैली सूची	अनासक्ति 366.1
राक्षस उत्पत्ति 784 3 ⇨	लाछन तिलक 843.8	राग गायन शैली सूची 460.39 ⇨	रागांग
राक्षसकाय	राखदानी	रागः चार अंग सूची	रागः चार अंग सूची 459.26
दैत्यकाय 154 24	राखदानी 218.22 ⇨	राग चार अंग सूची 459.26 ⇨	रागांग 459.30 ⇨
राक्षस गण	राखनहार	राग चूर्ण	रागात्मक
जन्म गण सूची 261 10	जीवन रक्षक 908 23	लाक्षा 290 26	काव्यात्मक 451.29
राक्षस गुरु	राखनहारा	राग. छादानुकरण	प्रेमपूर्ण 368 17
शुक्राचार्य 789 23	जीवन रक्षक 908 23	रागांग 459.30	संगीतमय 457 43
राक्षसता	राखना	राग छेड़ना	रागानुशाग
असुरता 783 5	रक्षा करना 908 16	गाना 460.43	आसक्ति 365 1
दानवीयता 734 4	राख होना	राग जाति सूची 1	रागान्वयक
राक्षसनी	पूरा जलना 108 10	राग जाति सूची 1 457 14 ⇨	आसक्तिकर 365.6
राक्षस स्त्री 784 2	राखा	रागदार	रागान्वित
राक्षस पात्र	रक्षक 908 20	राग गायक 460 38	आरंजित 291.14
राक्षस पात्र 770.47 ⇨	सकट मोचक 910 10	रागदारी	आसक्त 365 5
राक्षस पात्र (दे. राक्षस)	राखी	राग गायन 460 37	तल्लीन 331 14
राक्षस पात्र 770.47	रक्षा बंधन 57 20	राग पत्नी	प्रभावित 511 13
राक्षस मर्दक	राखी 57.21 ⇨	रागिनी 457 23	प्रेमासक्त 368 21
असुर नाशक 783 30	राखी संबंध	राग परिचायक स्वर समूह	रागान्वित करना
राक्षस मर्दन	भाई बहन संबंध 723 1	राग परिचायक स्वर समूह 459.2 ⇨	आसक्त करना 365 4
असुर नाश 783 10	राग	रागपूर्ण	रागान्विततः
राक्षसमर्दन	अनुलाप 435 9	स्वर सामंजस्यपूर्ण 460.45	आसक्तिपूर्वक 365 8
असुर नाशक 783 30	आकर्षण 1050 10	रागपूर्णक	रागान्वित न होना
राक्षस राज	आसक्ति 365 1	आसक्तिपूर्वक 365 8	आसक्त न होना 366.3
रावण 784 12	इच्छा 359 1	रागबद्ध	रागान्वित होना
हेति 784 22	काव्य गुण सूची 453 4	स्वर सामंजस्यपूर्ण 460 45	आसक्त होना 365 3
राक्षसः वाद्य	गीत 451 19	राग बंधना	रागिनी
आनंद वाद्य 461.16	पान लाली 213 23	स्वर मिलाना 460 42	प्रेमिका 368 3
राक्षस विवाह	प्रयुक्ति 502 1	रागमय	रागिनी 457.23 ⇨
राक्षस विवाह 799.28 ⇨	प्रेम 368 1	प्रेमपूर्ण 368 17	रागी
राक्षस विषयक	भोग लिप्सा 363 4	संगीतमय 457.43	कुशल गायक 460.18
राक्षसीय 784 30	मनोरजन 469.1	रागमयला	गायक 460 17
राक्षस सूची	मनोवाछा 359 4	स्वर सामंजस्य 460.15	तल्लीन 331.14
राक्षस सूची 784 4 ⇨	रंग 289 1	रागमुक्त	प्रेमी 368 2
राक्षस स्त्री	राग 457.13 ⇨	विरक्त 366.6	राग गायक 460.38
राक्षस स्त्री 784.2 ⇨	लगन 493 4	राग मुक्त होना	रागी 187.18 ⇨
राक्षस स्त्री सूची	सम्मोह 367 1	विरक्त होना 366 4	सिख धर्माधिकारी 744.46
राक्षस स्त्री सूची 784.23 ⇨	राग अंग	रागभुक्ति	राघव
राक्षसी	राग अंग 459.25 ⇨	विरक्ति 366 2	दशरथ 770.33
दानवीय 734 16	रागः अंतिम स्वर	रागरंग	राम 770.1
राक्षस स्त्री 784 2	न्यास स्वर 459 20	आनंद मंगल 382 3	राघवेंद्र
राक्षसीय 784 30	राग अलापना	गायन वादन 460 8	राम 770 1
सामिध 205.3	अनुलाप करना 435.21	विलास 363.6	राखना
राक्षसीय	राग आधार	राग रागिनी सूची	तल्लीन होना 331.9
दानवीय 734.16	धाट 458 19	राग रागिनी सूची 457.24 ⇨	प्रसन्न होना 381.4
राक्षसीय 784.30 ⇨	रागः आरंभिक स्वर	रागव्य	राठ
राक्षसीयता	ग्रह स्वर 459.19	रंगव्य 290.1	चक्कीः धुरी 560.14
असुरता 783 5	रागकारक	राग कुजक	जुलूस 1088.7
दानवीयता 734.4	आसक्तिकर 365.6	संगीत सृजन कर्ता 460.7	वरयात्रा 800.43
राक्षसोचितता	राग क्लेश	राग स्वर	हथीका 559.39
दानवीयता 734.4	पंच क्लेश सूची 781 17	राग स्वर 459.17 ⇨	राज
राख	राग गायक	राग स्वरः प्रकार सूची	गुहाराज 770.26
दग्ध 108.13	राग गायक 460 38 ⇨	राग स्वरः प्रकार सूची 459.18 ⇨	राज
पूर्ण दग्ध 108 16			रहस्य 823.7

## राज

### राज

राजगीर 599.20  
राज्य व्यवस्था 881.12  
शासन 890.1  
शासन काल 890.9  
राज ऋषि  
रजर्षि 789.10  
राजक  
सुशासित 893.11  
राजकता  
सुशासन 893.1  
राजकन्या  
राजकुमारी 882.21  
राजकर  
कर 647.2  
राज कवि  
राज्य कवि 448.21  
राज काज  
राज्य व्यवस्था 881.12  
शासन कर्म 890.3  
राज की बात  
रहस्य 823.7  
राजकीय  
राज्यीय 881.32  
शासकीय 890.20  
राजकुँवर  
राजकुमार 882.20  
राजकुँवरी  
राजकुमारी 882.21  
राजकुमार  
राजकुमार 882.20 ⇨  
राजकुमारी  
राजकुमारी 882.21 ⇨  
राजकुल  
राज दरबार 889.14  
राजवंश 727.5  
राजगद्दी  
राजा पद 882.8  
सिंहासन 595.9  
राजगी  
राजा पद 882.8  
राजगीर  
राजगीर 599.20 ⇨  
राजगीरी  
राजगीरी 599.19 ⇨  
राज घराना  
राजवंश 727.5  
राज चंपक  
चंपा 14.15  
राज चिह्न  
राजा चिह्न 408.12  
राज्य प्रतीक 408.10  
राजछत्र  
राजछत्र 408.13 ⇨  
राजतंत्र  
राजतंत्र 881.19 ⇨  
राजतंत्र: नागरिक  
प्रजा 883.6

### राजतंत्रवाद

राजतंत्रवाद 884.10 ⇨  
राजतंत्रात्मक  
राजतंत्रात्मक 881.39 ⇨  
राजतंत्री  
राजतंत्रात्मक 881.39  
राजतंत्र  
अमलतास 13.3  
राज तिलक  
राज तिलक 899.16 ⇨  
राजत्व  
राजा पद 882.8  
राजदंड  
राजदंड 408.14 ⇨  
राज्यादेश 878.3  
राज दरबार  
राज दरबार 889.14 ⇨  
राज दरबारी  
दरबार सदस्य 889.15  
राजदान  
रहस्य ज्ञाता 822.23  
राजदानी  
रहस्य ज्ञान 822.5  
राजदार  
रहस्य ज्ञाता 822.23  
राजदारी  
गुप्त परामर्श 332.4  
रहस्य ज्ञान 822.5  
राजदूत  
प्रतिनिधि सूची 888.27  
राजदूत 443.10 ⇨  
राजदूत पत्र  
राजदूत परिचय पत्र 704.2  
राजदूत परिचय पत्र  
राजदूत परिचय पत्र 704.2 ⇨  
राजदूत परिचय पत्र 704.7 ⇨  
राजदूतावास  
राजदूतावास 443.13 ⇨  
राजदूर्वा  
गौडर घास मूल 112.15  
राजधानु  
खरा चाँदी सोना 95.2  
राजधानी  
केन्द्रीय स्थान 971.5  
राजधानी 620.15 ⇨  
राजन  
राजा 882.6  
राजनय क्रम  
प्रथाक्रम 991.11  
राजनयिक  
राजनयिक 443.15 ⇨  
राजनयिक कार्यालय  
राजदूतावास 443.13  
राजना  
शोभान्वित होना 226.7  
राजनीति  
राजनीति 884.1 ⇨

### राजनीतिक

राजनीति विषयक 884.36  
राजनीतिक दल  
राजनीतिक दल 885.15 ⇨  
राजनीतिक शांति  
सुशासितता 893.3  
राजनीति: चार उपाय  
नीति चतुष्टय 819.2  
राजनीति बाज़  
गुटबाज़ 885.39  
राजनीति विषयक  
राजनीति विषयक 884.36 ⇨  
राजनेता  
नेता 346.2  
राजन्य  
क्षत्रिय 731.19  
राजा 882.6  
राजपत्नी  
राजा पत्नी 882.17  
राजपत्रित अधिकारी  
राजपत्रित अधिकारी 652.9 ⇨  
राजपत्रित सेनाधिकारी  
राजपत्रित सेनाधिकारी 935.4 ⇨  
राजपथ  
राजमार्ग 1063.39  
राज पद्धति  
राज्य व्यवस्था 881.12  
राजपाट  
राजा पद 882.8  
राजपाल  
राजा 882.6  
राज्यपाल 891.3  
राजपाल भवन  
राज्यपाल भवन 602.36  
राजपुत्र  
क्षत्रिय 731.19  
राजकुमार 882.20  
राजपुत्रा  
राजा. माता 882.16  
राजपुत्री  
जूही 14.18  
राजकुमारी 882.21  
राजपूज्य  
स्वर्ण 95.4  
राजपूत  
क्षत्रिय 731.19  
राजपूत से मुगल काल तक काल  
मध्य काल 76.8  
राजपूताना  
राजस्थान 28.64  
राजपूती विवाह  
कन्या हरण 799.20  
राज प्रतिनिधि  
राजदूत 443.10  
राज प्रतीक  
राज्य प्रतीक 408.10  
राज प्रस्ताव  
राज महल 602.34

### राजफल

परवल 189.25  
राज बंदर  
ऑवला 189.6  
राज बंदरी  
बेर 190.28  
राजबाहा  
नहर 23.3  
राजबीजी  
राजयश्री 727.32  
राज भंडार  
राज भंडार 670.1 ⇨  
राज भवन  
राज महल 602.34  
राज्यपाल भवन 602.36  
राजभोग  
राजभोग 203.37 ⇨  
राज मंडल  
राज्य समूह 881.9  
राज मंत्री  
राजा मंत्री 889.20  
राज मजदूर  
राज मजदूर 599.22 ⇨  
राज मजदूरी  
राज मजदूरी 599.21 ⇨  
राज मणि  
लाजवर्द 96.26  
राज मराल  
राजहंस 126.78  
राज महल  
राज महल 602.34 ⇨  
राजमहाल पहाड़ियाँ  
भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17.1  
राज महिषी  
राजा प्रधान पत्नी 882.18  
राजमा  
दलहन सूची 188.7  
राजमाह 188.16  
राज माता  
राजा माता 882.16  
राजमार्ग  
मुख्य सड़क 1063.34  
राजमार्ग 1063.39 ⇨  
राजमाष  
राजमाह 188.16  
राजमाह  
राजमाह 188.16 ⇨  
राज मिस्तरी  
राजगीर 599.20  
राज मुनि  
राजर्षि 789.10  
राजयक्ष्मा  
क्षय रोग 163.35  
राजयष्टि  
राजदंड 408.14  
राजयान  
पालकी 1071.24  
राजा: शोभायात्रा 1088.12

राजयोग	राज दरबार 889 14	राजा: छाता	राजा: संगत
प्रधानता 852 3	राज्यसभा 889.3	राजा छाता 584.31 ⇨	राजा संगति 696.3
राजयोग 756 12 ⇨	राज सिंहासन	राजा: छाता (दे. राज विह्न)	राजा: संगति
राजराज	राजा पद 88: 8	राजा छाता 584 31	राजा संगति 696 3 ⇨
सम्राट 882 24	सिंहासन 595 1	राजाछा	राजा: संगी
राज राजेश्वर	राजसिक	राज्यादेश 878 3	राजा. संगी 696 4 ⇨
सम्राट 882 24	मसालेदार 281.42	राजाछा पत्र	राजा सवारी
राज राजेश्वरी	रजोगुणी 762 15	राज्यादेश पत्र 878 4	राजा: शोभायात्रा 1088 12
राजा प्रधान पत्नी 882 18	राज वैभवशाली 226 17	राजादन	राजा: सात्ता
सम्राट पत्नी 882 25	राजा योग्य 882.35	घिरीजी 281 15	शकार 467 28
राजरोग	राज्यीय 881 32	पलारा 13 13	राजाहीन प्रजातंत्र
क्षय रोग 163.35	शासकीय 890 20	राजादेश	गणतंत्र 881.16
महारोग 163 2	राजसिकता	राज्यादेश 878 3	राजिका
राजर्षि	वैभव 226 5	राजाधिराज	राई 196 19
राजर्षि 789 10 ⇨	राजसी	ईसा 791 8	रागी 187 18
राज लक्ष्मी	उत्तम 313 13	सम्राट 882.24	राजित
जय श्री 774 38	धनाढ्योचित 626 17	राजाधीन राज्य व्यवस्था	आलोकित 285 45
राजवंश	रजोगुणी 76: 15	राजतंत्र 881 19	दीप्त 287 34
राजवंश 727 5 ⇨	राज वैभवशाली 226 17	राजानक	शोभायुक्त 226 11
राजवंशी	राजा योग्य 882 35	सामत 882 32	राजिय
राजवंशी 727 32 ⇨	राजा विषयक 882 34	राजात्र	कमल 14 4
राजवंशीय	राजसी गति	धान सूची 187 12	शोभायुक्त 226 11
राजवंशी 727 32	राजसी गति 1084.3 ⇨	राजा: पत्नी	राज्ञी
राजवंश्य	राजसी तंबू	राजा पत्नी 882.17 ⇨	प्रसन्न 381 7
राजवंशी 727 32	राजसी तंबू 600 22 ⇨	राजा पद	मनाया [मनाई] 374 19
राज वर्ग	राजस्य यज्ञ	राजा पद 882 8 ⇨	सहमत 337 19
उच्च वर्ग 688 8	यज्ञ सूची 753.2	राजापहरण	राज्ञी करना
राजयर्थस्य	राजस्थली	सत्ता अपहरण 902.5	मनाना 374 13
राजा पद 882 8	राजस्थान 28 64	राजा: प्रतिनिधि शासक	राज्ञी खुशी
राजवर्ष	राजस्थान	राजा प्रतिनिधि शासक 882 29 ⇨	कुशल क्षेम 710 6
लाजवर्द 96 26	राजस्थान 28 64 ⇨	राजा: प्रधान पत्नी	राज्ञीनामा
राजवीथी	राजस्थान: राजधानी	राजा प्रधान पत्नी 882 18 ⇨	अनुबध पत्र 339.2
राजमार्ग 1063 39	राजस्थान: राजधानी 28 65 ⇨	राजा बलि	सहमति पत्र 339 7
राजयूक्त	राजस्थानी	र्षी. 769 37	राज्ञीनामा (मराठी)
अमलतास 13 3	राजस्थानी 421 15 ⇨	राजा भोज गंगू तेली	त्यागपत्र 653 17
राज वैद्य	राजस्य	विपरीतता. उपमान सूची 310 13	राज्ञीय
महावैद्य 172 9	राजस्य 647.1 ⇨	राजा: मंत्री	कमल 14 4
राज वैभवशाली	राजहंस	राजा मंत्री 889.20 ⇨	नील कमल 14 5
राज वैभवशाली 226 17 ⇨	राजहंस 126 78 ⇨	राजा: माता	हाथी 127 38
राज व्यवस्था	राजा	राजा माता 882 16 ⇨	राज्ञीयलोचन
राज्य व्यवस्था 881 12	उत्तमता उपमान सूची 313 4	राजाय	कमलनयन 158 16
राज शकर	क्षत्रिय 731 19	आम मूर्खी 190 10	राम 770 1
हिलसा 125 16	पति 803 5	राजायुक्त गणतंत्र	राज्ञीयलोचना
राजशाक	प्रधान व्यक्ति 852 4	प्रजातंत्र 881 18	कमलनयना 158 17
बभ्रुआ 189 28	बड़ा जमींदार 553 15	राजा योग्य	राज्ञीयिनी
राजशाही	राजा 882.6 ⇨	राजा योग्य 882 35 ⇨	कमलिनी 14.8
राजतंत्रवाद 884 10	राजा [रानी]	राजा रंक	राज्ञी होना
राजतंत्रात्मक 881 39	रजा [रानी] पकाम (बक) सूची 882.10	विपरीतता उपमान सूची 310.13	प्रसन्न होना 381 4
राज संघ	राजा [रानी]: पदनाम (भारत) सूची	राजा रानी	सहमत होना 337 11
राज्य संघ 881 8	रजा [रानी] पकाम (बक) सूची 882.10 ⇨	राजा रानी 882.5 ⇨	राजुक
राज संसद	राजा [रानी]: पदनाम (मराठा) सूच	राजाई	करदाता राजा 882.7
राज दरबार 889 14	रजा [रानी] पकाम (मठ) सूच 882.11 ⇨	राजा योग्य 882.35	राजू
राजस	राजा इंदर	राजा विषयक	तोता 126 44
रजोगुणी 762.15	इंद्र 773.5	राजा विषयक 882.34 ⇨	राजेंद्र
राज सत्ता	राजा ऋषि	राजा शाही	राजा 882.6
राज्य व्यवस्था 881*12	राजर्षि 789.10	राजतंत्रात्मक 881.39	राजेश
राज सभा	राजा विह्न	राजा: शोभायात्रा	राजा 882.6
दरबार भवन 695.8	राजा विह्न 408.12 ⇨	राजा शोभायात्रा 1088.12 ⇨	

## राजेश्वर

### राजेश्वर

राजा 882.6  
सम्राट 882.24

### राजेश्वर

राजा योग्य 882.35

### राजोचित

राजा योग्य 882.35

### राजोपकरण

राजा चिह्न 408 12

### राज्ञी

राजा पत्नी 882.17  
सज्ञा 774.94  
स्वयं रानी 882 19

### राज्य

प्रदेश 34 9  
भू संपत्ति सूची 624 12  
राज्य 881.5 ⇨  
राज्य व्यवस्था 881.12  
शासन 890.1  
शासन काल 890 9

### राज्य अंग

राज्य अंग 881.24 ⇨

### राज्य अंग सूची

राज्य अंग सूची 881.25 ⇨

### राज्य अध्यक्ष

राष्ट्र अध्यक्ष 882 1

### राज्य कर

कर 647 2

### राज्यकरण

शासन कर्म 890 3

### राज्य कर्ता

शासक 890 5

### राज्य कर्म

शासन कर्म 890 3

### राज्य कवि

राज्य कवि 448 21 ⇨

### राज्य काल

शासन काल 890 9

### राज्य चिह्न

राज्य प्रतीक 408 10

### राज्यध्युत

सत्ताध्युत 902 25

### राज्यध्युत करना

सत्ताध्युत करना 902 19

### राज्य ध्युति

सत्ता ध्युति 902 3

### राज्य त्याग

सत्ता त्याग 902 2

### राज्य त्यागना

सत्ता त्यागना 902 18

### राज्य त्यागी

सत्ता त्यागी 902 24

### राज्य दंड

राजदंड 408 14

### राज्यः देय उपज

राज्य देय उपज 647.30 ⇨

### राज्य नाश

सत्ता ध्युति 902 3

1470

### राज्यपाल

प्रात प्रशासक 882.31

राज्यपाल 891.3 ⇨

### राज्यपाल भवन

राज्यपाल भवन 802.36 ⇨

### राज्य प्रतीक

राज्य प्रतीक 408.10 ⇨

### राज्य मंडल

राज्य समूह 881.9

### राज्य लक्ष्मी

जय श्री 774 38  
प्रभु सत्ता 899 2

### राज्य विप्लव

वर्जित दूर्य सूची 463 28

### राज्य विषयक

राज्यीय 881 32

### राज्य व्यवस्था

राज्य व्यवस्था 881.12 ⇨

शासन 890 1

### राज्य शासन

शासन कर्म 890 3

### राज्यश्री

प्रभु सत्ता 899 2

### राज्य संघ

राज्य संघ 881 8 ⇨

### राज्यसंघवाद

राज्यसंघवाद 884 14 ⇨

### राज्य संघीय

राज्य संघीय 881 33 ⇨

### राज्य सभा

दरबार भवन 895.8

### राज्यसभा

राज्यसभा 889 3 ⇨

### राज्य समूह

राज्य समूह 881.9 ⇨

### राज्य सेवा

राज्य सेवा 890.11 ⇨

### राज्य सेवा कर्मी

राज्य सेवा कर्मी 890.12 ⇨

### राज्यांग

राज्य अंग 881 24

### राज्यादेश

राज्यादेश 878 3 ⇨

### राज्यादेश पत्र

राज्यादेश पत्र 878.4 ⇨

### राज्याधिकार

सत्ता 899 1

### राज्याध्यक्ष

राष्ट्र अध्यक्ष 882 1

### राज्यापहरण

सत्ता अपहरण 902.5

### राज्याभिषेक

राज्याभिषेक 899 15 ⇨

### राज्यारूढ़

सत्तारूढ़ 899 25

### राज्यारोहण

सत्तारोहण 899 14

### राज्यारोहण करना

सत्तारोहण करना 899 22

### राज्यासन

सिंहासन 595 9

### राज्यीय

प्रदेशीय 34 16

राज्यीय 881 2 ⇨

### राज्योपकरण

राजा चिह्न 408 12

राज्य प्रतीक 408 10

### राटुल

बड़ा तराजू 962 10

### राठ

राजा 882 6

राष्ट्र 881 1

### राठ

कलह 708 1

### राठार केंद्र

राठार स्टेशन 1074 27

### राठार स्टेशन

राठार स्टेशन 1074 27 ⇨

### राठार स्टेशन (अं)

राठार स्टेशन 1074 27

### राठार स्थल

राठार स्टेशन 1074 27

### राणा

राणा 882 13 ⇨

### राणा [रानी]

रजा [रानी] पक्काम (कस्त) सूची 882 10

### रात

अहोरात्र दो भाग 46 16

रात 48.1 ⇨

### रात (दे.)

अधिकार 286 1

### रात की रानी

रात की रानी 14.23 ⇨

### रातः चौथा पहर

रात चौथा पहर 49 9 ⇨

### रातकी

रात 48.1

### रात दिन

अविराम 1049 10

उन्नति अवनति 532 3

पूरे दिन 1049 21

### रातः दूसरा पहर

रात दूसरा पहर 49.8 ⇨

### रातना

प्रेम करना 388 13

### रात पढ़ना

सायकाल होना 47 18

### रात पढ़े

सायकाल में 47 22

### रात पहरदार

रात्रि पहरदार 908.10

### रातः पहला पहर

रात पहला पहर 49.7 ⇨

### रातः पूर्व भाग

पूर्व रात्र 48 10

### रात बिरात

देर रात में 48 16

### रात बीतना

प्रभात होना 47 17

### रात रानी

रात की रानी 14 23

### रात विषयक

रात विषयक 48 13 ⇨

### राता [राती]

आरजित 291 14

तृप्त 361 16

प्रवृत्तिशील 502 9

### राति

रात 48 1

### रातिब

घारा 556 4

### रातुल

बड़ा तराजू 962 10

### रात्रिघर

रात्रिघर 48 14

रात्रि पहरदार 908.10

### रात्रि

रात 48 1

### रात्रि आहार

साध्य आहार 199 4

### रात्रिक

रात विषयक 48 13

### रात्रिघर

राक्षस 784 1

रात्रिघर 48 14 ⇨

### रात्रि घारिणी

स्ट्रीटवाकर 807 4

### रात्रि जागरण

रतजगा 749 24

### रात्रिः पहरदार

रात्रि पहरदार 908.10 ⇨

### रात्रि भोजी

निषाद 732 6

### रात्रि संपादक

संपादक सूची 445 16

### रात्रि हास

कुमुद 14 9

### रात्रीय

रात विषयक 48 13

### राद्ध

कार्यान्वित 505.27

कृत 505.20

रैंधा [रैंधी] 195 64

### राध

दया 834 1

पूजक 751 3

वैशाख 43.8

### राधक

पूजक 751 3

### राधन

पूजन 751.2

### राधना

पूजा 751.1

राधा	परशुराम अवतार 769 28	रामदूत	राम राम कर के
प्रेम 368 1	बलराम 771 74	हनुमान 781 19	कठिनतः 519.31
मेघ विद्युत् 55 9	राम 770.1 ⇌	रामः धनुष	राम रावण
राधा 771.83 ⇌	विलास 363 6	रामः धनुष 926.10 ⇌	विपरीतताः उपमान सूची 310.13
राधाकांत	विष्णु चौबीस अवतार सूची 769.9	राम नवमी	शत्रुताः उपमान सूची 708.22
कृष्ण 771 1	विष्णु दस अवतार सूची 769 8	राम नवमी 57.22 ⇌	राम शोला
राधारमण	विष्णु पूर्णावतार सूची 769 6	रामनामी	कोलाहल 294.8
कृष्ण 771.1	राम (दे.)	रामनामी चादर 585.11	राम लक्ष्मण
राधा रानी	विष्णु 768 1	रामनामी चादर	राम लक्ष्मण 770.48 ⇌
राधा 771 83	राम कथा	रामनामी चादर 585 11 ⇌	राम लखन
राधा बल्लभ	रामायण 770 12	रामनामी	राम लक्ष्मण 770.48
कृष्ण 771 1	रामकली	राम नवमी 57.22	राम लक्ष्मण
राधा बल्लभ संप्रदाय	राग रागिनी सूची 457 24	रामः पत्नी	राम लक्ष्मण 770.48
राधा बल्लभ संप्रदाय 737.41 ⇌	राम कहानी	राम पत्नी 770.6 ⇌	राम लक्ष्मण
राधिक	जीवनी 450.20	रामः पिता	राम लक्ष्मण 770.48
राधा 771 83	रामकालीन	रामः पिता 770 2 ⇌	राम लक्ष्मण
राधित	त्रेतायुगीन 40 18	रामः पुत्र सूची	राम लक्ष्मण 770.48
पूजित 751 23	राम गिलहरी	राम पुत्र सूची 770.7 ⇌	राम लक्ष्मण
राधे	राम गिलहरी 127.65 ⇌	रामः पुल	राम लक्ष्मण 770.48
राधा 771 83	रामः गुप्तचर	राम पुल 1065.13 ⇌	राम लक्ष्मण
राधेय	दुर्मुख 770.39	रामः प्रपितामह	राम लक्ष्मण 770.48
कर्ण 771 47	रामः गुरु	रघु 770 46	राम लक्ष्मण
मंगल ग्रह 7 7	राम गुरु 770.8 ⇌	राम प्रिया	राम लक्ष्मण 770.48
राधे रानी	राम घास	सीता 770 66	राम लक्ष्मण
राधा 771 83	दूब घास 11.10	राम बैटाई	राम लक्ष्मण 770.48
राध्य	रामचंद्र	समविभाजन 699 7	राम लक्ष्मण
करणीय 505.18	राम 770 1	राम बनवास	राम लक्ष्मण 770.48
पूजनीय 751 24	रामचक्र	रामलीला प्रसंग सूची 57 13	राम लक्ष्मण
रान	बड़ा 200 21	रामबाण	राम लक्ष्मण 770.48
जौघ 149 13	रामचरित मानस	अचूक औषध 176 8	राम लक्ष्मण
राना	रामचरित मानस 7. 15 ⇌	लक्ष्यानुगामी 931 22	राम लक्ष्मण
राणा 882.13	रामचरित मानसः कांड	राम भक्त हनुमान	राम लक्ष्मण
सुंदर 157 7	रामचरित मानस कांड 770.16 ⇌	हनुमान 781 19	राम लक्ष्मण
रानाई	राम जननी	रामभद्र	राम लक्ष्मण
अभिमान गति 1084 2	कौशल्या 770 25	राम 770 1	राम लक्ष्मण
नाज़ नखरा 860 1	रोहिणी 771.85	रामः भाई सूची	राम लक्ष्मण
सुंदरता 157 1	रामजना [रामजनी]	राम भाई सूची 770.5 ⇌	राम लक्ष्मण
रानी	जारज 716 18	राम मर्यादा	राम लक्ष्मण
उत्तमता उपमान सूची 313 4	वर्ण सकर 731 40	पत्नीव्रत 805 5	राम लक्ष्मण
पत्नी 803 6	रामजनी	रामः माता	राम लक्ष्मण
राजा पत्नी 882.17	वेश्या 807.5	शौशान्या 770.25	राम लक्ष्मण
राजा माता 882 16	रामजन्म	राम माता 770.3 ⇌	राम लक्ष्मण
विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856 6	रामलीला प्रसंग सूची 57 13	रामरस	राम लक्ष्मण
स्वय रानी 882 19	राम जन्म दिवस	नमक 279.5	राम लक्ष्मण
रानीत्व	राम नवमी 57 22	रामः राजधानी	राम लक्ष्मण
रानी पद 882.9	राम जाने कब	राम राजधानी 770.10 ⇌	राम लक्ष्मण
रानी पद	सुदूर भूत मे 36 32	रामः राज्य	राम लक्ष्मण
रानी पद 882.9 ⇌	रामझोल	रामः राज्य 770.9 ⇌	राम लक्ष्मण
राप्ती	पाज़ेब 228 18	रामराज्य	राम लक्ष्मण
भारत उपमहाद्वीप. नदी सूची 20 7	रामठ	राम राज्य 770 9	राम लक्ष्मण
राब	हींग 281.39	राम राज्य	राम लक्ष्मण
राब 280.8 ⇌	राम तरोई	रामलीला प्रसंग सूची 57 13	राम लक्ष्मण
राबना	मिडी 189.30	रामराज्य	राम लक्ष्मण
सिघन करना 548 38	राम दल	सुशासन 893.1	राम लक्ष्मण
राम	रामः सेना 770 11	राम राज्याभिषेक जयंती	राम लक्ष्मण
आनंदप्रद 382.18	विजयी सेना 932 3	दीवाली 57 15	राम लक्ष्मण
तीन उपमान सूची 948 22	रामबास	राम राम	राम लक्ष्मण
दशरथ. पुत्र सूची 770.35	सिख गुरु सूची 794.2	भर्त्सना उद्गार सूची 843.28	राम लक्ष्मण

## रामाप्रिय

### रामाप्रिय

दारघीनी 281.20

### रामायण

रामचरित मानस 770.15

रामायण 770.12 ⇨

वाल्मीकि रामायण 770.13

### रामायण कालीन

त्रेतायुगीन 40.18

### रामायण महाभारत

हिंदू धर्मग्रंथ 740.9

### रामायण रचिता

वाल्मीकि 789.19

### रामायण वाचक

लव कुश 770.54

### रामायुध

राम. धनुष 926.10

### रानी

कौंस घास 11.7

### रामू

आयासीय सेवक 651.4

### रामेश्वर

ज्योतिर्लिंग सूची 746.19

शिवलिंग सूची 746.17

### रामेष्ठा

दारघीनी 281.20

रा मैटीरियल (अँ)

कच्चा माल 546.3

### राय

क्षत्रिय 731.19

परामर्श 332.1

प्रस्ताव 329.1

मत 343.1

मतदान पत्र 888.20

रज [रनी]: पक्ष (कक्ष) सूची 882.10

यिघार 330.1

सुझाय 332.5

### रायजावा [रायजावी]

रज [रनी]: पक्ष (कक्ष) सूची 882.10

### रायता

रायता 201.7 ⇨

### रायमुनी

मुनियों 126.83

### रायल्टी

रायल्टी 621.13 ⇨

### रायल्टी (अँ)

रायल्टी 621.13

### राय

कलह 708.1

तकरार 708.7

### शारी

तकरारी 708.14

### राल

गॉद 1012.7

राल 290.25 ⇨

लार 215.24

वार्निस 290.15

साल 13.26

### राल निर्वास

राल 290.25

### राव

आर्तनाद 386.3

क्षत्रिय 731.19

दरबार सदस्य 889.15

बदीजन 841.15

मंद ध्वनि 294.7

राजा 882.6

### राव [रानी]

रज [रनी]: पक्ष (कक्ष) सूची 882.10

### राव चाव

लाइ प्यार 721.6

### रायट

ऐश्वर्य भवन 602.12

राज महल 602.34

### रावटी

छोटा तबू 600.20

बारहदरा 615.9

### रायण

कोलाहलकारी 294.31

धनिकारी 294.22

राक्षस सूची 784.4

रायण 784.12 ⇨

### रावण (कथांतर)

सीता: पिता 770.68

### रावण: उद्यान

रायण उद्यान 784.18 ⇨

### रावण: तलवार

रायण तलवार 784.19 ⇨

### रावण दहन

दशहरा 57.9

### रावण: पत्नी

रायण: पत्नी 784.17 ⇨

### रावण: पिता

रायण: पिता 784.13 ⇨

### रावण: पुत्र

अक्ष कुमार 784.5

### रावण: बहन

रायण बहन 784.16 ⇨

शूर्पणखा 784.27

### रावण: भाई

विभीषण 784.21

### रावण: भाई सूची

रायण: भाई सूची 784.15 ⇨

### रावण-मंदोदरी: पुत्र

मेघनाद 784.10

### रावण: माता

रायण माता 784.14 ⇨

### रावण वध

रामलीला प्रसंग सूची 57.13

### रावण विजेता

कार्तवीर्य 789.31

### रावण: विमान

रायण: विमान 784.20 ⇨

### रावण: श्वशुर

मय 783.20

### रावण: सीतेला भाई

कुबेर 779.4

### रावणगारि

राम 770.1

### रावणि

मेघनाद 784.10

### रावत

दल नायक 852.6

योद्धा 934.15

राजा 882.6

वीर पुरुष 396.2

सेनापति 935.1

### रावरा [रावरी]

आप का 316.26

### रावल

दल नायक 852.6

योद्धा 934.15

राजा 882.6

रज [रनी]: पक्ष (कक्ष) सूची 882.10

सेनापति 935.1

### रावी

कोलाहलकारी 294.31

भारत उपमहाद्वीप: नदी सूची 20.7

### राशन (अँ)

आहार पदार्थ 186.1

### राशनिंग

राशनिंग 186.10 ⇨

### राशनिंग (अँ)

राशनिंग 186.10

### राशि

चक्र. बारहवाँ भाग 960.6

जोड़ फल 954.3

ढेर 686.6

नर राशि 628.4

निरिधत संख्या 949.3

मात्रा 946.3

राशि 4.7 ⇨

राशि 686.2 ⇨

संख्या 948.1

समूह 690.1

राशि: .5

होरा 50.15

### राशि: उदय विनाश

जन्म लग्न 261.11

लग्न 49.11

### राशिकरण

संराशिकरण 667.4

### राशिकृत

संराशित 667.16

### राशिचक्र

राशिचक्र 4.4 ⇨

राशिचक्र: 1/12

राशि 4.7

राशिचक्र: 1/360

अंश 980.12

राशिचक्र: 1/50

चक्र. पचासवाँ भाग 960.10

### राशित

संराशित 667.16

### राशि द्रव्य

चक्र. छठा भाग 960.4

राशि पर एकाधिक ग्रह का योग

ग्रहयोग 261.28

### राशि भोग

ग्रहगति 4.9

ग्रहभोग 4.10

### राशि मंडल

राशिचक्र 4.4

### राशि विषयक

राशि विषयक 686.21 ⇨

राशि: समानीकरण

गणितीय समीकरण 952.5

### राशि सूची

राशि सूची 4.8 ⇨

राशि: सूर्य प्रवेश

सूर्य संक्राति 5.25

### राशीकृत

गिना [गिनी] 950.12

### राशीय

राशि विषयक 686.21

### राशयंतरण

सूर्य संक्राति 5.25

### राष्ट्र

नृजाति 730.14

राष्ट्र .881.1 ⇨

### राष्ट्र अध्यक्ष

राष्ट्र अध्यक्ष 882.1 ⇨

### राष्ट्र अस्थिता

राष्ट्रीयता 881.2

### राष्ट्र कवि

राष्ट्र कवि 448.22 ⇨

### राष्ट्र जयंती

राष्ट्र जयंती 58.10 ⇨

### राष्ट्रत्व

राष्ट्रीयता 881.2

### राष्ट्र द्रोह

राष्ट्र द्रोह 827.6 ⇨

### राष्ट्र द्रोही

राष्ट्र द्रोही 827.21 ⇨

### राष्ट्र निरपेक्षता

अंतर्राष्ट्रीयता वाद 884.28

### राष्ट्रनिष्ठ

राष्ट्रनिष्ठ 826.12 ⇨

### राष्ट्र निष्ठा

राष्ट्र निष्ठा 826.5 ⇨

### राष्ट्रपति

राष्ट्रपति 882.2 ⇨

### राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति भवन 802.35 ⇨

### राष्ट्र प्रेम

राष्ट्र निष्ठा 826.5

### राष्ट्र प्रेमी

राष्ट्रनिष्ठ 826.12

### राष्ट्र भक्त

राष्ट्रनिष्ठ 826.12



**राष्ट्र मंडल**  
सयुक्त राष्ट्र संघ 443 16

**राष्ट्रवाद**  
राष्ट्रवाद 884 27 ⇨

**राष्ट्र वासी**  
जनता 883 5  
नागरिक 883 2

**राष्ट्र विप्लव**  
विद्रोह 903 3

**राष्ट्र संघ**  
सयुक्त राष्ट्र संघ 443 16

**राष्ट्र सदस्य**  
नागरिक 883 2

**राष्ट्र सदस्यता**  
नागरिकता 883 1

**राष्ट्र सापेक्षता**  
राष्ट्रवाद 884 27

**राष्ट्र सीमेतर समुद्र**  
गुला समुद्र 24 2

**राष्ट्राध्यक्ष**  
राष्ट्र अध्यक्ष 882 1

**राष्ट्रिक**  
जनता 883 5  
राष्ट्रीय 881 29

**राष्ट्रिय**  
राष्ट्रीय 881 29

**राष्ट्रीय**  
केन्द्रीय सत्ता विषयक 899 23  
देश स्तरीय 35 6  
राष्ट्रीय 881 29 ⇨  
राष्ट्रीयकृत 635 19  
शासकीय 890 20  
सामूहिक 690 13  
स्वदेशीय 34 20  
स्वराष्ट्रीय 881 31

**राष्ट्रीयकरण**  
राष्ट्रीयकरण 635 3 ⇨

**राष्ट्रीयकृत**  
राष्ट्रीयकृत 635 19 ⇨

**राष्ट्रीयता**  
राष्ट्र निष्ठा 826 5  
राष्ट्रवाद 884 27  
राष्ट्रियता 881 2 ⇨

**राष्ट्रीयता पत्र**  
यात्रापत्र सूची 1087 37

**राष्ट्रीय राजमार्ग**  
राष्ट्रीय राजमार्ग 1063.40 ⇨

**राष्ट्रीय वेश**  
राष्ट्रीय वेश 589.13 ⇨

**राष्ट्रीय संपत्ति**  
राष्ट्रीय संपत्ति 624.3 ⇨

**राष्ट्रीय समय**  
मानक समय 50 6

**राष्ट्रीय सरकार**  
केन्द्र सरकार 890 14

**रास**  
अतरीय 26 10  
अनुकूल 885 37

कल्याणकारी 710 21  
जोड़ फल 954 3  
जोत रस्सी 555 16  
डाडिया रास 462 10  
नृत्य 462 3  
नृत्य मडली 462 15  
पशु समूह 690 1  
मच नाटक 463 1  
रसिया 457 40  
रास लीला 771 25  
लगाम 555 17  
विलास 363 6  
शूखला 569 26  
हितकारी 712 13

**रास आना**  
कल्याणकारी होना 710 14  
हितकर होना 712 10

**रास गरबा**  
गुला रास 462 10

**रासनशीन**  
दत्तक 716 20

**रास पकड़ाई**  
बाग पकड़ाई 800 29

**रास बिहारी**  
कृष्ण 771 1

**रासभ**  
गधा 127 30

**रासभी**  
मादा गधा 127 31

**रासरंग**  
मनोरजन 469 1  
विलास 363 6

**रास रथैया**  
कृष्ण 771 1

**रास लीला**  
डाडिया रास 462 10  
रास लीला 771 25 ⇨

**रासायनिक उर्वरक**  
रासायनिक उर्वरक 552 12 ⇨

**रासायनिक उर्वरक सूची**  
रासायनिक उर्वरक सूची 552 13 ⇨

**रासायनिक तत्त्व**  
रासायनिक तत्त्व 78.7 ⇨

**रासायनिक द्रव्य**  
रसायन 87 1

**रासायनिक धागा**  
रासायनिक धागा 569 15 ⇨

**रासायनिक रंग**  
रासायनिक रंग 290 4 ⇨

**रासायनिक वस्त्र**  
रासायनिक वस्त्र 579 14 ⇨

**रासायनिक वस्त्र सूची**  
रासायनिक वस्त्र सूची 579 15 ⇨

**रासायनिकी**  
रासायनिकी 87 4 ⇨

**रासायनिकीविद**  
रसायनज्ञ 87 5

**रासिय**  
खरा [खरी] 98 12

**रासी**  
क्षार 87 10  
राज्जी 87 17

**रासेश्वरी**  
राधा 771 83

**रासो**  
महाकाव्य 451 12

**रासोत्सव**  
शरद पूर्णिमा 57 26

**रास्त**  
अनुकूल 885 37  
खरा [खरी] 98 12  
दक्षिण पार्श्वीय 997 21

**रास्ता**  
उपाय 517 3  
महल्ला 619 6  
मार्ग 1063 1  
विकल्प 516 1  
सड़क 1063 33

**रास्ता काटना**  
मार्ग पर जाना 1098 13

**रास्ता खुला है**  
हरी बत्ती 1067 17

**रास्ता दिखाना**  
निर्देशन करना 347 9  
नेतृत्व करना 346 4

**रास्ता न चुन पाना**  
दुबिधा में होना 501 5

**रास्ता न मिलना**  
मार्ग भ्रम होना 1099 4

**रास्ता न सूझना**  
मार्ग भ्रम होना 1099 4

**रास्त पकड़ना**  
मार्ग पर जाना 1098 13

**रास्ता फटना**  
मार्ग पृथक होना 1098 20

**रास्ता बँटना**  
मार्ग पृथक होना 1098 20

**रास्ता बंद है**  
लाल बत्ती 1067 14

**रास्त बताना**  
मार्ग दिखाना 1098 15

**रास्ता बदलना**  
दिशा बदलना 1098 18

**रास्ता भूलना**  
मार्ग भ्रम होना 1099 4

**रास्ता मिलना**  
मार्ग सगम होना 1098 21

**रास्ता याद न आना**  
मार्ग भ्रम होना 1099 4

**रास्ता लेना**  
जाना 1091 6  
मार्ग पर जाना 1098 13

**रास्ते**  
मार्ग से 1098 26

**रास्ते पर चलना**  
मार्ग पर जाना 1098 13

**रास्ते पर लगाना**  
मार्ग दिखाना 1098 15

**रास्ते में होना**  
सकमण करना 1091 7

**रास्ते से हटना**  
मार्गव्युत्त होना 1099 5

**राह**  
उपाय 517 3  
परिपाटी 514 9  
मार्ग 1063 1  
विकल्प 516 1

**राह अलग होना**  
मार्ग पृथक होना 1098 20

**राहखर्च**  
यात्रा भत्ता 643 39  
यात्रा व्यय 1087 14

**राहगीर**  
अपरिचित 697 16  
यात्री 1087 2

**राहगुज़र**  
सार्वजनिक मार्ग 1063 8

**राह चबनी**  
पिंडदान 253 24  
यात्रा आहार 199 6

**राह चलता**  
अपरिचित 697 16  
यात्री 1087 2  
साधारण जन 728 12

**राह चलते**  
राह चलते 1098 27 ⇨

**राह चलते की मुलाकात**  
मार्ग परिचितता 704 12

**राहधाह**  
चरित्र 810 1  
व्यवहार 703 2

**राहज़न**  
बटमार 864 34

**राहत**  
अनुतोष 640 9  
राहत 171 12 ⇨

**राहत (दे.)**  
आरोग्य लाभ 171 11

**राहत दाता**  
राहत दाता 171 23 ⇨

**राहत पाना**  
राहत मिलना 171 18

**राहत मिलना**  
राहत मिलना 171 18 ⇨

**राहती**  
राहत दाता 171 23

**राहबारी**  
घुगी कर 647 15  
देश निर्गमानुमति पत्र 1092 8  
पथ कर 647 22  
पार गमन अनुमति 1097.2  
मार्गाधिकार 1063 6

## राहदारी परवाना

- यात्रापत्र सूची 1087.37  
राहदारी परवाना  
मार्गनुमति पत्र 1092.9  
राह देखना  
प्रतीक्षा करना 1057.5  
राहबर  
नेता 346.2  
राहबरी  
नेतृत्व 346.1  
राह बायन होना  
मार्ग पृथक होना 1098.20  
राह भटकना  
मार्गच्युत होना 1099.5  
राह भटका [राह भटकी]  
मार्गच्युत 1099.8  
राह भूला [राह भूली]  
मार्गभ्रंत 1099.7  
राह में लूटना  
बटमारी करना 864.50  
राहरस्म  
घनिष्ठता 704.13  
परिचितता 704.1  
व्यवहार 703.2  
संगति 696.1  
राहरीति  
चरित्र 810.1  
परिचितता 704.1  
व्यवहार 703.2  
संगति 696.1  
राह लगाना  
मार्ग दिखाना 1098.15  
राह सुमाना  
मार्ग दिखाना 1098.15  
राहित्य  
अनुपलब्धता 942.4  
राहिन  
बचक कर्ता 633.39  
राही  
यात्री 1087.2  
राहु  
दानव सूची 783.13  
नयग्रह सूची 261.14  
राहु 6.4 ⇨  
सिंहिका पुत्र सूची 783.26  
राहु कबंध  
केतु 6.5  
राहु केतु  
असुरादि जोड़ी सूची 783.4  
राहुग्रस्त  
ग्रहण ग्रस्त 6.7  
राहु ग्रह  
राहु 6.4  
राहु प्राप्त  
ग्रहण 6.1  
राहुः पिता  
विप्रधिति 783.15  
राहु रत्न  
गोमेद 96.9

- राहुल  
बुद्ध पुत्र 793.10  
राहु शीर्ष  
राहु 6.4  
राहु स्पर्श  
ग्रहण 6.1  
राहे  
मार्ग से 1098.26  
रिक (अँ)  
स्केटिंग रिक 482.17  
रिंग  
रिंग 482.18 ⇨  
रिंग (अँ)  
अँगूठी 228.2  
रिंग 482.18  
रिंगन  
रेग 1084.18  
रिंग रोड  
रिंग रोड 1063.38 ⇨  
रिच  
रिच 559.46 ⇨  
रिच (अँ)  
स्पैनर 559.38  
रिंद  
आनदशील 382.19  
मद्यपायी 209.42  
मद्य रसिक 209.43  
मद्यासक्त 209.44  
यिलासी 363.20  
रिंदी  
मद्य रसिकता 209.25  
रिआयत  
रिआयत 664.16 ⇨  
रिआयत करना  
रिआयत देना 664.26  
रिआयत देना  
रिआयत देना 664.26 ⇨  
रिआयती  
रिआयती 664.35 ⇨  
रिआया  
कृषक 548.2  
प्रजा 883.6  
सेयक 651.25  
रिऐक्शन प्रोपल्शन (अँ)  
विस्फोट प्रणोदन 1051.5  
रिकमंडेशन (अँ)  
सिफारिश 841.19  
रिकवैच  
अरवी पत्ता पकौड़ी 200.18  
रिकशा (अँ)  
रिकशा 1071.52  
रिकाब किरती  
रखा नीका 1072.32  
रिकार्ड (अँ)  
कीर्तिमान 512.2  
ग्रामोफोन रिकार्ड 300.16  
धनिलेख 300.10

- रिकार्ड प्लेयर (अँ)  
ग्रामोफोन 300.14  
रिकार्ड बनाना  
कीर्तिमान स्थापित करना 512.4  
रिकार्ड बाबू  
अभिलेख पाल 669.11  
रिकार्डर (अँ)  
ध्वनि लेखन यंत्र 300.13  
रिकार्ड रूम (अँ)  
अभिलेखागार 669.10  
रिकार्डकार  
उच्चक 973.11  
रिकार्डिंग (अँ)  
ध्वनि लेखन 300.11  
रिकार्डिस्ट (अँ)  
ध्वनि लेखक 300.12  
रिक्त (प्र)  
निर्वात 1005.4  
रिक्त  
रिक्त 1005.7 ⇨  
रिक्त (पद)  
रिक्त (पद) 653.30 ⇨  
रिक्त करना  
रिक्त करना 1005.6 ⇨  
रिक्तता  
निर्जनता 611.6  
निर्वातता 1005.3  
पद रिक्ति 653.1  
रिक्तता 1005.7 ⇨  
रिक्त पद  
रिक्त पद 653.2 ⇨  
रिक्तम (प्र)  
निर्वात 1005.4  
रिक्त स्थान  
रिक्त पद 653.2  
शून्य स्थान 33.4  
रिक्तहस्त  
अभावग्रस्त 627.17  
रिक्त होना  
रिक्त होना 1005.5 ⇨  
रिक्ता  
चतुर्थी 44.10  
चतुर्दशी 44.20  
नयमी 44.15  
रिक्ति  
निर्वातता 1005.3  
पद रिक्ति 653.1  
रिक्तता 1005.1  
रिक्थ  
उत्तराधिकार 623.1  
संपत्ति 624.1  
सकल संपत्ति 624.2  
रिक्थ अनुपत्र  
रिक्थ अनुपत्र 623.16 ⇨  
रिक्थ दाता  
उत्तराधिकार दाता 623.13  
रिक्थ दान  
उत्तराधिकार दान 623.12

- रिक्थ देना  
उत्तराधिकार देना 623.21  
रिक्थ पत्र  
उत्तराधिकार पत्र 623.14  
रिक्थ प्रमाण पत्र  
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 623.15  
रिक्थभागी  
उत्तराधिकारी 623.2  
रिक्थ बंधन  
उत्तराधिकार बंधन 623.11  
रिक्थ बंधित  
उत्तराधिकार बंधित 623.25  
रिक्थ विभाजन  
उत्तराधिकार विभाजन 623.6  
रिक्थाधिकार  
उत्तराधिकार 623.1  
रिक्थाधिकारी  
उत्तराधिकारी 623.2  
रिक्थाधिकारीहीन  
उत्तराधिकारीहीन 623.26  
रिक्थाधिकारी हीनता  
उत्तराधिकारीहीनता 623.18  
रिक्थीय  
उत्तराधिकारीय 623.23  
रिक्शा  
रिक्शा 1071.52 ⇨  
रिक्शा (अँ)  
रिक्शा 1071.52  
रिगिंग (अँ)  
जलयान रस्ती 1073.16  
रिजा  
ऋषा 452.10  
रिज़र्व (अँ)  
आरक्षित 660.20  
संचित 645.9  
रिज़र्व करना  
आरक्षित करना 660.15  
रिज़र्व बल  
रिज़र्व सेना 932.4  
रिज़र्व सेना  
रिज़र्व सेना 932.4 ⇨  
रिज़र्वेशन (अँ)  
क्रय आरक्षण 660.11  
रिज़र्वर्ड (अँ)  
आरक्षित 660.20  
रिज़ल्ट (अँ)  
परीक्षा फल 322.23  
रिज़ुला  
अवकता 974.2  
छलहीनता 815.3  
रिज़ौल्ड (अँ)  
पारित 329.27  
रिज़कदार  
प्रेमासक्त 368.21  
लुब्ध 359.30  
रिज़्जदार  
प्रेमी 368.2

**रिज्ञाना**  
 प्रसन्न करना 381 5  
 लुब्ध करना 359 16  
 सम्मोहन करना 367 5  
**रिज्ञाय**  
 सम्मोहकता 367 3  
 सम्मोहन 367 2  
**रिटायरमेंट (अँ)**  
 सेवा निवृत्ति 653 18  
**रिटायरिंग रूम**  
 विश्राम कक्ष 1069 6  
**रिटेल (अँ)**  
 खुर्दा सामान 666 7  
**रिटेलर (अँ)**  
 खुदरा व्यापारी 657 5  
**रिट्रीट (अँ)**  
 पीछे हटना कर्म 916.6  
 बीटिंग द रिट्रीट 907 18  
**रिस्कना**  
 मथन करना 554 21  
**रिक्तभरण**  
 ईश्वरीय विद्यान चरण 878 20  
**रित**  
 आदित्य 777 1  
 ईश्वरीय विद्यान 878 19  
 नैतिकतापूर्ण 815 5  
 परंपरा 795 1  
 वास्तविक 820 23  
 सूर्य 8 1  
 सृष्टि धारक तत्त्व 529 3  
**रित्तना**  
 रिक्त होना 1005 5  
**रिताई**  
 रेताई 542 3  
**रिताना**  
 रिक्त करना 1005 6  
**रिति**  
 गति 1042 1  
 मार्ग 1063 1  
**रितु**  
 ऋतु 51 13  
 रज 130 9  
**रितुराज**  
 वसंत काल 52 1  
**रित्तीय**  
 रजीय 130 12  
**रिद्ध**  
 समृद्ध 626 11  
**रिद्धि**  
 ऋद्धि 774 15  
 सफलता 512 1  
 समृद्धि 626 1  
 साधु सिद्धि 790 29  
**रिद्धि सिद्धि**  
 ऋद्धि सिद्धि 774 16  
**रिद्धम (अँ)**  
 ताल 458 23  
 ताल लय 458 37

**रिपट**  
 रिपट 1016 18  
**रिपब्लिक (अँ)**  
 गणतंत्र 881 16  
**रिपब्लिक डे (अँ)**  
 गणतंत्र दिवस 58 11  
**रिपब्लिकन (अँ)**  
 गणतंत्रात्मक 881 37  
**रिपिट**  
 रिपट 1016 18  
**रिपु**  
 शत्रु 706 2  
**रिपुटन**  
 शत्रु नाशक 706 20  
**रिपुजय**  
 शत्रुजय 912 5  
**रिपुजेता**  
 शत्रु विजेता 912 19  
**रिपुता**  
 कलहा 708 1  
 शत्रुता 706 1  
**रिपुदमन**  
 शत्रुघ्न 770 58  
**रिपु दमन**  
 शत्रुजय 912.5  
**रिपुदमन**  
 शत्रु विजेता 912 19  
**रिपु नाश**  
 शत्रु नाश 706 9  
**रिपु नाशन**  
 उच्छादन 758 15  
**रिपुनाशन यंत्र**  
 उच्छादन यंत्र 758 14  
**रिपु पक्ष**  
 विरोध पक्ष 886 3  
**रिपु विजेता**  
 शत्रु विजेता 912.19  
**रिपु सूदन**  
 शत्रुघ्न 770 58  
**रिपेअर (अँ)**  
 मरम्मत 538 1  
**रिपोर्ट (अँ)**  
 प्रेषित समाचार 445 18  
 विवरण 449 8  
 वृत्तांत 449 14  
 समाचार 440 1  
**रिपोर्ट करना**  
 उपस्थित होना 1021.6  
**रिपोर्टर (अँ)**  
 संवाददाता 445 22  
 समाचार पत्र 445 1  
**रिपोर्टिंग (अँ)**  
 समाचार प्रेषण 445 17  
**रिफॉर्म (अँ)**  
 सुधार 537 5  
**रिफॉर्मेटरी (अँ)**  
 सुधार घर 537 6

**रिप्यूजी (अँ)**  
 विस्थापित जन 1036.5  
 शरणगत 910 12  
**रिबन (अँ)**  
 तसमा 571 30  
 फ्रीता 571 26  
**रिबन गौठ**  
 सजावटी गौठ 572 7  
**रिबाउंड होना**  
 प्रतिनोदित होना 1051 20  
**रिबाउंस करना**  
 टिप्पा खिलाना 1052.16  
**रिभु**  
 आदित्य 777 1  
 इंद्र 773 5  
**रिम (अँ)**  
 चार सौ अस्सी कन्नड़ समुच्चय 687 22  
 नेमि 1077 8  
**रिभडिम**  
 क्षीण वर्षा 54 9  
**रिमांड (अँ)**  
 प्रतिप्रेषण 868 10  
**रिमाइंड कराना**  
 स्मरण कराना 356 15  
**रिमाइंडिंग (अँ)**  
 स्मरण 356 8  
**रियाज**  
 अध्यवसाय 489 4  
 अभ्यास 303 5  
 आरंभिक अभ्यास 303.6  
 रिहर्सल 468 16  
 स्वर साधन 460 9  
**रियाज़ी**  
 अभ्यास कला 303 20  
**रिगासत**  
 4शी राज्य (ब्रिटिश काल) 881 6  
 भू संपत्ति सूची 624 12  
**रियासती**  
 प्रदेशीय 34 16  
 भूसंपत्तीय 624.19  
 राज्यीय 881 32  
 शासकीय 890 20  
**रिशियाना**  
 गिरुगिङाना 350 13  
**रिशिहा [रिशिही]**  
 गिरुगिङाता [गिरुगिङाती] 350 21  
**रिलना**  
 एक होना 698 8  
 विलय होना 21 33  
**रिलीज़ (अँ)**  
 उद्घाटन 693 2  
**रिलीक (अँ)**  
 अनुतोष 640.9  
**रिलेटिविटी (अँ)**  
 सापेक्षता सिद्धांत 964 17  
**रिबट**  
 रिबट 1016.18 ⇨

**रिबट (अँ)**  
 रिबट 1016.18  
**रिबट करना**  
 रिबट करना 1016.40 ⇨  
**रिबटन**  
 रिबटाई 1016.8  
**रिबट लगा**  
 रिबटित 1016 47  
**रिबटाई**  
 रिबटाई 10.16.6 ⇨  
**रिबटिंग (अँ)**  
 रिबटाई 1016.8  
**रिबटिड (अँ)**  
 रिबटित 1016 47  
**रिबटित**  
 रिबटित 1016.47 ⇨  
**रियाज़**  
 परिपाटी 514 9  
 प्रचलन 514 7  
 प्रथा 795 9  
 विवाह रस्म रियाज 800 1  
**रियाज़ी**  
 परिपाटी अनुकुल 514 18  
**रियायत**  
 इस्लामी परंपरा 795 7  
 धर प्रचलन 514 8  
 जनश्रुति 424 13  
 परंपरा 795 1  
 परिपाटी 514 9  
**रियायती**  
 धर प्रचलित 514 17  
 पारंपरिक 795 13  
 प्रथागत 795 15  
**रिवील्डर (अँ)**  
 पिस्तौल 927 3  
**रिवील्डिंग चेअर**  
 रिक्लिग चेअर 595.26 ⇨  
**रिवील्डिंग चेअर (अँ)**  
 रिक्लिग चेअर 595.26  
**रिवील्डिंग डोर (अँ)**  
 चरखी कपाट 609.6  
**रिवील्डिंग रैक (अँ)**  
 घूमने वाली अलमारी 671 6  
**रिश्ता**  
 रिश्तेदारी 715.5  
 विवाह 799 1  
 विवाह प्रस्ताव 799.29  
 विवाह संबंध 724.1  
 संबंध 715.1  
**रिश्ता आना**  
 विवाह प्रस्ताव आना 799.49  
**रिश्ता नाता**  
 रिश्तेदारी 715 5  
**रिश्ता होना**  
 रिश्ता होना 715.9 ⇨  
**रिश्तेदार**  
 रिश्तेदार 715 6 ⇨  
 वैवाहिक संबंधी 724.2

## रिशतेदार व्यक्ति

<b>रिशतेदार व्यक्ति</b>	<b>रिसर्पर (अं)</b>	<b>रीकरिंग (अं)</b>	<b>रीढ़ रज्जु</b>
रिशतेदार 715 6	अनुसंधान कर्ता 307 16	प्रत्यावर्ती 71 13	रीढ़ रज्जु 131 15 ⇨
<b>रिशतेदार होना</b>	<b>रिसला [रिसली]</b>	<b>रीकाल (अं)</b>	<b>रीढ़ास्थि</b>
रिशता होना 715 9	चिड़चिड़ा [चिड़चिड़ी] 373 32	प्रत्यावाहन 1055 4	रीढ़ कशेरुक 133 15
<b>रिशतेदारी</b>	<b>रिसा [रिसी]</b>	<b>रीकाल करना</b>	<b>रीतना</b>
रिशतेदारी 715.5 ⇨	अखित 1032 26	वापस मेंगाना 1055 9	रिक्त होना 1005 5
संबध 715 1	<b>रिसार्इ</b>	<b>रीर</b>	<b>रीता [रीती]</b>
स्यजन 725 1	आयण 1032 2	पक्षी विष्टा 216 5	रिक्त 1005 7
<b>रिशतेदारी होना</b>	<b>रिसालत</b>	पतली विष्टा 216 4	<b>रीतापन</b>
रिशता होना 715 9	ईश्वरीय संदेश वहन 443 7	<b>रीछ</b>	रिक्तता 1005 1
<b>रिशतेनातेदारी</b>	<b>रिसालदार</b>	रीछ 127.80 ⇨	<b>रीति</b>
स्यजन 725 1	अश्व सैनिक 934 8	<b>रीछराज</b>	कला विधा 397 13
<b>रिशतेमंद</b>	<b>रिसाला</b>	जाबयान 781 10	'कला शैली 397 14
रिशतेदार 715 6	अश्व सेना 932 11	<b>रीजेंट</b>	कार्य विधि 514 1
<b>रिशते वाले</b>	पत्रिका 445 2	रीजेंट 882 30 ⇨	काव्य गुण सूची 453 4
देवाहिक सबधी 724 2	सेना 932 1	<b>रीजेंट (अं)</b>	काव्य प्रवृत्ति 453 13
<b>रिशते से</b>	<b>रिसाय</b>	रीजेंट 882 30	धर्म कर्म 747 1
संबधत 715 14	आव 1032 1	<b>रीजैक्यान (अं)</b>	धर्म विधि 747 3
<b>रिशयद</b>	<b>रिसीट (अं)</b>	अस्वीकृति 338 1	परिपाटी 514 9
आखेट गड़दा 252 24	आयक 1054 8	<b>रीझ</b>	परिस्थिति 69 5
<b>रिश्वत</b>	आयक पत्र 1054 9	आलुभन 359 7	प्रथा 795 9
रिश्वत 865 9 ⇨	रसीद 632 25	सम्मोह 367 1	मर्यादा 808 5
<b>रिश्वत खाना</b>	<b>रिसैस (अं)</b>	<b>रीझना</b>	स्वभाव 836 4
रिश्वत लेना 865 20	कार्य अतराल 494 4	प्रसन्न होना 381 4	<b>रीतिगत</b>
<b>रिश्वतखोर</b>	<b>रिहड़ी</b>	प्रेम करना 368 13	परिपाटी अनुकुल 514 18
रिश्वतखोर 865 26 ⇨	दोमट 100 17	लुब्ध होना 359.15	प्रथागत 795 15
<b>रिश्वतखोरी</b>	<b>रिहर्सल</b>	सम्मोहित होना 367 4	<b>रीतिपूर्वक</b>
रिश्वतखोरी 865 10 ⇨	रिहर्सल 468.16 ⇨	<b>रीझा [रीझी]</b>	विधिपूर्वक 514 19
<b>रिश्वत देना</b>	<b>रिहर्सल (अं)</b>	सम्मोहित 367 6	<b>रीति रिवाज़</b>
रिश्वत देना 865.19 ⇨	रिहर्सल 468 16	<b>रीट्टैरमेट (अं)</b>	धर्म विधि 747 3
<b>रिश्वत पिलाना</b>	<b>रिहा</b>	छँटनी 653 16	परंपरा 795 1
रिश्वत देना 865.19	अपराध मुक्त 869 9	<b>रीठा</b>	संस्कार 798 1
<b>रिश्वत प्रदाता</b>	उन्मुक्त 1015 9	रीठा 220.25 ⇨	<b>रीति रिवाज़ी</b>
रिश्वत प्रदाता 865 25 ⇨	सकटमुक्त 910 9	<b>रीठ औनली मैमरी (अं)</b>	धर्म कर्म विषयक 747 5
<b>रिश्वत लेना</b>	<b>रिहाइरा</b>	रोम 951 28	<b>रीतिवाद्य</b>
रिश्वत लेना 865 20 ⇨	आवासन 618 1	<b>रीठक्यान (अं)</b>	हिंदी काव्य सिद्धांत सूची 453 12
<b>रिबन</b>	गृह 601.1	कटौती 664.17	<b>रीति विरुद्ध</b>
उत्तम 313 13	<b>रिहाइरी</b>	<b>रीडर (अं)</b>	प्रथा विपरीत 795 16
ऋषभ देव 792.3	आवासीय 618 22	कुलाध्यक्ष 323 19	<b>रीतिहीनता</b>
ऋषभ स्वर 459 8	<b>रिहाई</b>	पाठक 399 5	विधिहीनता 515 1
वानर सूची 781 7	अपराध मुक्ति 869 4	<b>रीडिंग (अं)</b>	<b>रीतीय</b>
<b>रिबभ देव</b>	रिहाई 869 1 ⇨	पठन 321 27	प्रथागत 795 15
ऋषभ देव 792.3	सकट मोचन 910 1	<b>रीडिंग टेबल</b>	<b>रीत्यनुकूल</b>
<b>रिभि</b>	<b>रिहा करना</b>	रीडिंग टेबल 595.37 ⇨	परिपाटी अनुकुल 514 18
ऋषि 789.2	अपराध मुक्त करना 869 6	<b>रीडिंग रूम (अं)</b>	विधिपूर्वक 514 19
<b>रिभि</b>	<b>रीधना</b>	याचनालय 669 15	<b>रीत्यनुसार</b>
अकल्याण 711.1	रौघना 195.49	<b>रीडैक्यान (अं)</b>	प्रधानुसारत 795 18
<b>रिभता [रिसती]</b>	<b>री</b>	पुनराकृत्य 660 9	विधिपूर्वक 514 19
पूयित 169 15	गति 1042 1	<b>रीढ़</b>	<b>रीप्रिट</b>
आवशील 1032 27	सचलन 1037 4	आधार सूची 596 2	रीप्रिट 419.9 ⇨
<b>रिसन</b>	<b>रीअर गार्ड (अं)</b>	पीठ 147 8	<b>रीप्रिट (अं)</b>
आव 1032 1	पृष्ठ रक्षक सेना 933 4	पोत रीढ़ 1073 37	रीप्रिट 419 9
<b>रिसना</b>	<b>रीइबर्स करना</b>	रीढ़ 133.14 ⇨	<b>रीफ्रेक्टर (अं)</b>
टपकना 1032 20	प्रतिपूर्त करना 634 22	साहस 394 1	प्रकाश वक्रावर्तक 288 15
आव होना 1032 16	<b>रीइबर्स (अं)</b>	<b>रीढ़क</b>	<b>रीफ्रेक्टिड (अं)</b>
<b>रिसर्च (अं)</b>	प्रतिपूर्त 634 35	रीढ़ 133 14	वक्रावर्तित (प्रकाश) 288.14
अनुसंधान 307 4	<b>रीक</b>	<b>रीढ़: कशेरुक</b>	<b>रीफ्रेक्यान (अं)</b>
	धूक 215 22	रीढ़: कशेरुक 133 15 ⇨	प्रकाश वक्रावर्तन 288.7

रीप्रलेक्टर (अं)	रैधना	निश्चलता 1038 2	रक्ष स्वभाव
प्रकाश परावर्तक 288 13	अवरुद्ध होना 1047 18	रकाय	रक्ष स्वभाव 838 4 ⇨
रीप्रलेखान (अं)	रैधा	छद यति 452 36	रक्ष स्वभावी
प्रकाश परावर्तन 288 6	वाघारुद्ध 429 27	रकावट	रक्ष स्वभावी 838.12 ⇨
रीम	रैधा [रैधी]	अनुपयुक्त अवसर 70 4	रुख
पूय 167.16	अवरुद्ध 1047 27	अवरोध 1047 8	आयाम 964 1
रीम (अं)	रुद्ध 272.10	यंत्र विकृति 536 2	कपोल 140 15
शर सी अस्ती कगल समुच्चय 687.22	रैधापन	रोका 675 14	दिशा 29 1
रीमः बीसवीं भाग	रुद्धता 272 3	विघ्न 1047 12	दिशा मे 29 1
श्रीबीस समुदाय 687 15	-रु	विलब 495 1	पार्श्व 997 1
रील	और 945 10	रुको	रुख करना
रील 405 24 ⇨	रुआँसा [रुआँसी]	लाल झडी 1067 15	दिशा न बदलना 1098 17
रील (अं)	रुआँसा [रुआँसी] 386 28 ⇨	रुलका	रुख चढ़वा
पेचक 575 8	रुआ	ऋण पत्र 633 14	भूत 786 1
रील 405 24	रुओ 569 4	रुलका	रुखदार
लटई 575 9	रुआफ	ऋण पत्र सूची 633 15	आयामयुक्त 964 20
रीवर्त्ता (अं)	रुकसीर 215 19	रुलका	रुखसत
वाम पृष्ठ 447 23	रुआब	दस्तावेज 412 9	विदा 1058 1
रीवेन्यु (अं)	हेकडी 734 10	निमत्रण पत्र 1056 2	रुखसती
राजख 647 1	रुआली	पत्र 444 1	विदायगी 800 31
रीस	पूनी 568 7	लिखित नोट 412 26	विदा 1058 1
ईध्या 709 1	रुई जैसा पुष्प	हुंडी 633 16	रुखसार
क्रोध 373 1	घूआ 115 9	रुक्का देना	कपोल 140 15
रीसना	रुकंत	दस्तावेज लिखना 412 41	रुखाई
कुद्ध होना 373 15	गति प्रतिरोध 1047 5	रुकन	उपेक्षा 185 2
रीसैपान (अं)	रुक जाना	प्रधान कर्मचारी 652 29	रुक्ष स्वभाव 838 4
स्वागत 1059 1	गति स्तम्भन होना 1047 17	रुकम	रुष्टि 374 2
रीसैपान कमेटी (अं)	रुकते रुकते	लोहा 93 7	रुखापन
स्वागत समिति 1059 6	सयिरामत 1048 8	स्यर्ण 95 4	आहार रुखापन 197 13
रीसैपान डेस्क (अं)	रुकना	रुकमरथ	रुखुरी
स्वागत डेस्क 1059 5	गति रुद्ध होना 1047 16	द्रोणाचार्य 771 63	घबैना 200 6
रीसैपान रुम (अं)	गतिरुद्ध होना 1047 14	रुकमपतीः पुत्र	रुग्ण
स्वागत रुक्ष 1059 4	निश्चल होना 1038 5	अनिरुद्ध 771 34	रोगग्रस्त 162 5
रीसैपानिस्ट (अं)	निषिद्ध काम छोड़ना 880 7	रुक्मिणी	रुग्णकर
स्वागत अधिकारी 1059 3	प्रतिरोध करना 915 4	कृ 1 आठ पत्नी सूची 771 12	स्वास्थ्यहर 162 6
रीह	यत्र विकृत होना 536 5	रुक्मिणी 771 84 ⇨	रुग्णता
अपान वायु 245 15	विराम होना 1048 3	रुक्मिणीः पुत्र	रोगग्रस्तता 162 1
रीही	विलब होना 495 6	प्रद्युम्न 771 73	रुग्ण होना
बादी 163 24	विश्राम करना 494 19	रुकमीदारण	रोगग्रस्त होना 162 4
रैझा [रैझी]	सयम पालना 808 11	बलराम 771 74	रुग्णालय
रुद्ध 272 10	रुक रुक कर	रुक्ष	अस्पताल 176 5
रैझापन	सयिरामतः 1048 8	अनद्युपडा [अनद्युपडी] 197 19	रुद्धक
रुद्धता 272 3	रुका [रुकी]	अन 1050 33	वीकोर स्तम्भ 607 9
रुड	अप्रवाहित (जल) 21 40	अप्रसन्न 381 10	त्रिलयण 279 2
नरमुड 140 2	अवरुद्ध 1047 27	अरसिक 838 15	सज्जी 87 17
रुड 147 2 ⇨	गतिरुद्ध 1047 23	अस्तिग्ध 197.17	रुधना
रुड मुंड	गतिरुद्ध 1047 21	खुरदुरा [खुरदुरी] 269 19	पसद आना 400 10
रुड 147 2	निश्चल 1038 8	जलहीन 89 11	प्रिय होना 369 6
रैदा [रैदी]	प्रवाहहीन 1041 9	रसहीन 84.18	शोभाञ्जित होना 226 7
मर्दित 911 10	विकृत (यत्र) 536 10	रुक्ष स्वभावी 838 12	सुखद लगना 390 9
रैदा [रैदी] 541 13 ⇨	विलंबित 495 11	रुखा [रुखी] 197.24	रुघा [रुघी]
रैदा [रैदी]	स्थगित 495.13	वंसाहीन 132 23	पसद 400 11
निष्कर्षित 83 14	रुकाई	शुक्क 89 9	रुधि
रैदाई	अवरोधन 1047 9	रुक्षता	अभिरुधि 400.2
रीदाई 541 4	रुका जल	अरसिकता 838 7	इच्छा 359 1
रैधन	प्रवाहहीन जल 21.12	उपेक्षा 185 2	पसदगी 400.3
मुकुलन 120 1	रुकापन	रुक्ष स्वभाव 838.4	प्रवृत्ति 502.1
	गति रुद्धता 1047 3	रुष्टि 374.2	प्रेम 368 1

## रुचि उत्पादन

मनोवृत्ति 351.7  
रुचि 400.1 ⇌  
होबी 469.8

**रुचि उत्पादन**  
प्ररोधना 488.23

**रुचिकर**  
पठनीय 400.14  
रोचक 400.12  
सुंदर 157.7  
स्वादिष्ठ 275.20

**रुचिकरता**  
रोचकता 400.4  
**रुचिकारी**  
क्षुधा वर्धक 180.17  
रोचक 400.12

**रुचिता**  
पसंदगी 400.3  
रोचकता 400.4  
शोभा 226.1

**रुचि देव सावर्णि मनु**  
मनु सूची 788.4

**रुचियुक्त**  
सुरुचि संपन्न 400.16

**रुचिर**  
क्षुधा वर्धक 180.17  
रोचक 400.12  
सुंदर 157.7  
स्वादिष्ठ 275.20

**रुचिरता**  
कलापूर्णता 402.1  
रोचकता 400.4  
सुंदरता 157.1  
स्वादिष्ठता 275.10

**रुचिरा**  
मूली 189.32

**रुचिरार्द्र**  
कलापूर्णता 402.1  
रोचकता 400.4  
सुंदरता 157.1

**रुचि लेना**  
रुचि लेना 400.8 ⇌

**रुचियान**  
सुरुचि संपन्न 400.16

**रुचि विपरीत**  
नापसंद 401.9

**रुचि विपरीतता**  
नापसंदगी 401.2

**रुचि विपरीत होना**  
पसंद न होना 401.7

**रुचिष्य**  
रोचक 400.12

**रुचिहीन**  
अरोचक 401.10  
असम्भ्य 734.14  
सुरुचिहीन 401.17

**रुचिहीनता**  
सुरुचिहीनता 401.5

**रुच्य**  
रोचक 400.12  
सुंदर 157.7

**रुज**  
रोग 163.1

**रुजापह**  
रोग निवारक 170.5

**रुज्जान**  
अभिरुचि 400.2  
अवनमन 1025.3  
मनोवृत्ति 351.7

**रुणित**  
झंकृत 296.27  
वादिता 461.105

**रुत**  
ऋतु 51.13

**रुतबा**  
पदवी 652.1  
प्रताप 849.5  
प्रतिष्ठा 849.2

**रुतबेदार**  
प्रतापशाली 849.19  
प्रतिष्ठित 849.15

**रुचन**  
झीक 386.8  
रुदन 386.1 ⇌  
रुद्र 767.34

**रुदनशील**  
रुदनशील 386.29 ⇌

**रुद्ध**  
अप्रवाहित (जल) 21.40  
अवरुद्ध 1047.27

गतिरुद्ध 1047.23

घेराबंद 914.23

निश्चल 1038.8

मुकुलित 120.8

रुद्ध 272.10 ⇌  
रोधित 920.21

वाधारुद्ध 429.27

**रुद्धकंठ**  
रुद्धकंठ 429.28 ⇌

**रुद्ध करना**  
अवरुद्ध करना 1047.19  
रुद्ध करना 272.7 ⇌

**रुद्धता**  
गति रुद्धता 1047.3  
रुद्धता 272.3 ⇌

**रुद्ध होना**  
अवरुद्ध होना 1047.18

**रुद्धाकांक्षा**  
दमित आकांक्षा 352.11

**रुद्र**  
कोलाहलकारी 294.31  
ग्यारह उपमान सूची 948.41

भयानक 395.25  
रुदनशील 386.29

रुद्र 767.34 ⇌  
रौद्र रस 455.16

शिव 767.1  
शिवः आठ रूप सूची 767.26

**रुद्र (वेद)**  
मरुत. पिता 781.2

**रुद्र काली**  
दुर्गा मूर्ति सूची 746.4

**रुद्रगर्भ**  
अग्नि 106.1

**रुद्रज**  
पारा 94.9

**रुद्रता**  
विकरालता 154.8

**रुद्रतेज**  
स्कंद 773.50

**रुद्र दैवत्य मंत्र**  
नाराशंस 741.8

मंत्र सूची 741.4

**रुद्रनाथ**  
शिव 767.1

**रुद्र शैवी**  
दुर्गा मूर्ति सूची 746.4

**रुद्रः माता**  
सरुपा 787.24

**रुद्रयान**  
इंद्र 773.5

**रुद्र संप्रदाय**  
चार वैष्णव संप्रदाय सूची 737.51

**रुद्रसखा**  
कुबेर 779.4

**रुद्र सावर्णि मनु**  
मनु सूची 788.4

**रुद्र सुंदरी**  
दुर्गा मूर्ति सूची 746.4

**रुद्र सूची**  
रुद्र सूची 767.36 ⇌

**रुद्रा**  
प्रवाल वृक्ष 97.8

**रुद्राक्ष माला**  
जपमाला 749.7  
रुद्राक्ष माला 228.36 ⇌

**रुद्राणी**  
पार्वती 776.9

महाकाली 776.4

**रुद्रारि**  
कामदेव 773.12

**रुद्रायास**  
कैलास शिखर 17.2

**रुधिर**  
देह मल सूची 215.2

रुधिर 131.1 ⇌

**रुधिर कोष**  
ब्लड बैंक 131.8

**रुधिर कोशालय**  
ब्लड बैंक 131.8

**रुधिर चाप**  
उच्च रुधिर चाप 131.6  
रुधिर चाप 131.4 ⇌

**रुधिर दान**  
रुधिर दान 131.7 ⇌

**रुधिरप**  
असुर दानव दैत्य राक्षस 783.2

**रुधिर प्रयितता**  
रुधिर प्रयितता 169.10 ⇌

**रुधिर प्रवाह**  
रुधिर प्रवाह 131.3 ⇌

**रुधिर मोचन**  
रुधिर मोचन 174.6 ⇌

**रुधिरयुक्त**  
रुधिरयुक्त 131.17 ⇌

**रुधिर रोक**  
टूर्नीकेट 174.14

**रुधिर वर्ग**  
रुधिर वर्ग 131.9 ⇌

**रुधिर संधार**  
रुधिर प्रवाह 131.3

**रुधिर ज्ञावण**  
रुधिर मोचन 174.6

**रुधिरहीन**  
रुधिरहीन 131.18 ⇌

**रुधिराक्त**  
रक्तजित 289.58

**रुधिरालय**  
ब्लड बैंक 131.8

**रुधिर्रीय**  
रुधिर्रीय 131.16 ⇌

**रुनक झुनक**  
झंकार 296.9

**रुनझुन**  
झंकार 296.9

**रुनझुन घाल**  
गजगामिता 1084.4

**रुनझुन रुनझुन चलना**  
गजगमन करना 1084.29

**रुनाई**  
लालिमा 289.18

**रुपए में तनी अठनी भुनाना**  
मुनाफाखोरी करना 865.22

**रुपट्टा**  
उत्तरीय 585.7

**रुपया**  
चौंटी सिक्का 629.3

रुपया 629.20 ⇌

**रुपयाः 1/100**  
पैसा 629.18

**रुपयाः ह**  
अठनी 629.5

**रुपयाः ह**  
घयत्री 629.11

**रुपयाः 2**  
टका 629.12

**रुपया धौली**  
रुपया धौली 672.10 ⇌

**रुपया पैसा**  
धन 628.1  
धन संपत्ति 624.10

रूपया: बंडल  
बीड 674 9  
रूपहला [रूपहली]  
रजताभ 289 59  
रूपहलापन  
रजतिमा 289 17  
रुपाई  
रोपण 548 8  
रुपैया  
रुपया 629 20  
रुबाई  
रुबाई 452 26 ⇨  
रुबाब  
रुबाब 461 74  
रुमझुम  
झकार 296 9  
रुमझुम रुमझुम घलना  
गजगमन करना 1084.29  
रुमाल  
रुमाल 588 3  
रुमाली रोटी  
रुमाली रोटी 202 18 ⇨  
रुरु धैरव  
धैरव गण सूची 767 33  
रुलना  
लुककन 1031 7  
रुलना  
खोज मे भटकना 336 18  
लुककना 1031 18  
सचलित होना 1037 13  
रुलाई  
रुदन 386 1  
रुल्ला  
ऊसर 552 3  
रुष्ट  
अप्रसन्न 381 10  
रुद्ध 373 28  
रुष्ट 374 17 ⇨  
रुष्टता  
रुष्टि 374 2  
रुष्टपुष्ट  
बलिष्ठ 160 10  
रुष्ट होना  
रुठना 374.11  
रुष्टा  
मानवती 374 18  
रुष्टि  
क्रोध 373 1  
रुष्टि 374.2 ⇨  
रुसवा  
अपमानित 855.11  
कुख्यात 848 4  
निदित 843 20  
लाञ्छित 843.23  
रुसवाई  
अपमान 855.1  
कुख्याति 848 1  
निदा 843.1

रुझना  
रुद्ध करना 272.7  
रुझना  
निष्कर्षित करना 83 11  
रुझना  
अवरुद्ध करना 1047.19  
रुद्ध करना ? 27  
रुअड  
रुअड 568.6 ⇨  
रुअई  
घुआ 115 9  
शरीर रोम 135 1  
रुई  
फाहा 174 19  
रुई 568 5 ⇨  
रुई की मशीन  
घुनाई यंत्र 562 4  
रुई गदा  
रुई गदा 593 45 ⇨  
रुई धागा  
सूती धागा 569.22  
रुईदार  
रोमल 135 11  
रुकुअ  
रुकुअ 739.5 ⇨  
रुक्ष  
वृक्ष 111 18  
रुख  
वृक्ष 111 18  
रुखडा  
वृक्ष 111.18  
रुखा [रुखी]  
अकाव्यात्मक 451 30  
अनुचुपडा [अनुचुपडी] 197.19  
अनुचर (भूमि) 552 17  
अरसिक 838 15  
असुदर 156 3  
अस्तिग्ध 197 17  
जलहीन 89 11  
निष्कर्षित 83 14  
रसहीन 84 18  
रुक्ष स्वभावी 838 12  
रुखा [रुखी] 197.24 ⇨  
वसाहीन 132 23  
शुष्क 89 9  
संगीतहीन 457.44  
स्वादहीन 275.16  
हासहीन 384 15  
रुखापन  
अरसिकता 838 7  
रुखा सूखा  
निर्घन आहार 197.8  
रुखा सूखा [रुखी सूखी]  
अस्तिग्ध 197.17  
रुज  
रुज 225.12 ⇨  
रुज (अं)  
रुज 225.12

रुट (अं)  
यात्रा मार्ग 1087.26  
रुटीन  
रुटीन 514.6 ⇨  
रुटीन (अं)  
रुटीन 514 6  
रुठ  
क्रोध 373 1  
रुष्टि 374.2  
रुठन  
रुष्टि 374 2  
रुठना  
अप्रसन्न होना 381.6  
मान करना 374.12  
रुठना 374.11 ⇨  
रुठा [रुठी]  
रुष्ट 374 17  
रुठाराठी  
रुठाराठी 374 1  
रुठारुठी  
रुठारुठी 374.1 ⇨  
रुड  
अपरिवर्तनशील 533 10  
अपरिष्कृत 533 12  
आरुड 1082 29  
उदिभद 117 20  
ऊर्ध्वगत 1030 23  
पारपरिक 795 13  
प्रधलित 514 16  
रुडया  
पारंपरिकत 795.17  
रुड संख्या  
अभाज्य संख्या 949 13  
रुडार्थ  
राक्षणार्थ 426 5  
रुडि  
आरोहण 1082 1  
रुडि  
परपरा 795 1  
रुडिगत  
पारपरिक 795 13  
रुडिगतता  
पारपरिकता 795 2  
रुडिलः  
पारंपरिकत 795 17  
रुडियादी  
परपरायादी 343 23  
रुडियादी 343.24 ⇨  
रुड  
वाद्य तार 461.97  
रुडाद  
घटना 75.1  
वृत्तांत 449 14  
रुनुमाई  
मुँह दिखाई 800 36  
रुप  
आकार रूप 967 5  
घाँदी 95.3

रुद्ध वेरा 589.16  
लक्षण 317.5  
व्यक्तित्व 836.1  
सुंदर काया 158.1  
सुंदरता 157.1  
स्वरूप 967.6  
रुप (अंख)  
इन्द्रियार्थ सूची 268.10  
रुप अभिमान  
रुप अभिमान 860.6 ⇨  
रुप अभिमानिनी  
रुप अभिमानिनी 860.22 ⇨  
रुप अभिमानिनी  
रुप अभिमानिनी 860.21 ⇨  
रुप आकार  
आकार रूप 967.6  
रुपक  
घाँदी 95 3  
दृश्य काव्य 451.9  
नाटक आलेख 466 4  
प्रतिरूप 967 9  
मंथ नाटक 463 1  
रुपककार  
नाटककार 448 7  
रुपगार्धिणी  
रुप अभिमानिनी 860.22  
रुपगार्धिता  
रुप अभिमानिनी 860.22  
रुपगार्धी  
रुप अभिमानिनी 860.21  
रुपजीवी  
अभिनेता 464.5  
रुपण  
प्रमाण 327 1  
रुप देना  
गडना 545.22  
रुधित करना 527 9  
रुपधर  
सुंदरकाय 158 11  
रुपपति  
त्वष्टा 773.30  
विश्वकर्मा 773 44  
रुप परिवर्तन  
परिवर्तनशील 532 17  
रुप प्रदान  
गडाई 545.4  
रुपमती  
सुंदर स्त्री 157.2  
रुपमता  
सुंदरता 157.1  
रुप माधुरी  
रुप माधुर्य 157.4  
रुप माधुर्य  
रुप माधुर्य 157.4 ⇨  
रुपमान [रुपमती]  
सुंदर 157.7  
रुपयुक्त  
साकार 967 12

## रूपरेखा

### रूपरेखा

आकार चित्र 404 11  
 आरंभिक अवस्था सूची 994 23  
 डिज़ाइन 404 14  
 परिकल्पना 520 5  
 रेखाचित्र 404 17  
 सारांश 449 12  
**रूप लाक्षण्य**  
 रूप लाक्षण्य 157.5 ⇐  
**रूपवत् [रूपवती]**  
 सुंदर 157 7  
**रूपवशा**  
 सुंदरता 157 1  
**रूपवान**  
 सुडोल 155 4  
**रूपवान [रूपवती]**  
 सुंदर 157 7  
**रूपशाली [रूपशालिनी]**  
 सुंदर 157 7  
**रूप संपदा**  
 सुंदरता 157 1  
**रूप सज्जा**  
 शृंगार 222 1  
**रूपस्त्री**  
 सुंदर स्त्री 157 2  
**रूप हीटर (अँ)**  
 रुम हीटर 104 12  
**रूपहीन**  
 असुंदर 156 3  
 निराकार ईश्वर 764 8  
**रूपहीनता**  
 असुंदरता 156 1  
**रुपांक**  
 डिज़ाइन 404 14  
**रुपांकन**  
 चित्रांकन 404 24  
**रुपांतर**  
 पूर्ण परिवर्तन 532 8  
 रुपांतरण 397 31  
 रुपांतरित कृति 397.32  
 स्वाँग 464 13  
**रुपांतरण**  
 रुपांतरण 397.31 ⇐  
**रुपांतरित**  
 पूर्ण परिवर्तित 532 19  
**रुपांतरित कृति**  
 रुपांतरित कृति 397 32 ⇐  
**रुपांतरित शब्द**  
 रुपांतरित शब्द 423.10 ⇐  
**रुपा**  
 चाँदी 95 3  
 सुंदर स्त्री 157 2  
**रुपाकार**  
 अंग अनुपात 155 1  
 आकार रूप 967 5  
**रुपाकारयुक्त**  
 साकार 967 12

**रुपाकारयुक्तता**  
 साकारता 967 1  
**रुपाकारहीन**  
 निराकार 967 13  
**रुपाजीया**  
 येश्या 807 5  
 सामान्या नायिका 456 15  
**रुपाध्यक्ष**  
 टकसालिया 565 10  
**रुपाभिमान**  
 रूप अभिमान 860 6  
**रूपामक्यी**  
 रूपामाखी 92.10  
**रूपामाखी**  
 रूपामाखी 92 10 ⇐  
**रुपायित**  
 गका [गकी] 545 27  
 साकार 967 12  
**रुपित**  
 गका [गकी] 545 27  
**रुपी**  
 प्रतिरूपी 967 19  
 समरूप 967 20  
**-रुपी**  
 समान 309 22  
**रुपी**  
 साकार 967.12  
**रुपोरा**  
 नक्रावपोश 589 19  
 फरार 916 25  
 भूमिगत 824.23  
**रुप्य**  
 चाँदी 95 3  
**रुप्यक**  
 चाँदी सिक्का 629 3  
 रुपया 829.20  
**रुप्यरत्न परीक्षा**  
 चाँसठ कला सूची 397 4  
**रुबक**  
 अभिमुख्य 1023.9  
 आमने सामने 915 13  
 विरुद्धतः 886.8  
**रुबल**  
 रुबल 629.21 ⇐  
**रुबिया**  
 रुबिया 580.37 ⇐  
**रुबी (अँ)**  
 माणिक 96 22  
**रुम**  
 मद झुम 211.2  
**रुम (अँ)**  
 कमरा 614 1  
**रुम कुलर**  
 रुम कुलर 105.7 ⇐  
**रुमना**  
 झूलना 1034.19  
**रुम हीटर**  
 रुम हीटर 104.12 ⇐

**रुमान**  
 रोमांस 368 9  
**रुमानी कहानी**  
 प्रेम कथा 450.4  
**रुमानी हीरो**  
 प्रेमी नायक 467 6  
 शृंगारी नायक 456 1  
**रुमानी हीरोइन**  
 शृंगारी नायिका 456 6  
**रुमाल**  
 गुलुबंद 585.5  
 मियानी 586 21  
 रुमाल 588.3 ⇐  
 स्कार्फ 584 18  
**रुमाली**  
 स्कार्फ 584.18  
**रुकुआब**  
 प्रताप 849 5  
**रुल (अँ)**  
 फुटा 959.5  
 विधि (क्रानून) 878 1  
**रुलर (अँ)**  
 फुटा 959 5  
 रेखिक मापी 959 3  
**रुलेट (अँ)**  
 कैसीनो चक्र 481.16  
**रुलेट व्हील (अँ)**  
 कैसीनो चक्र 481 16  
**रुसना**  
 रुठना 374 11  
**रुसारासी**  
 रुठारूठी 374 1  
**रुसी**  
 रुसी 215 7 ⇐  
**रुसी बाँधी**  
 बोटका 209 19  
**रुह**  
 आत्मा 763 1  
 प्रिय वस्तु 389 2  
 प्रेमपात्रा 369 5  
 मर्मस्थल 999.6  
 शक्ति 487.1  
 सार 84 16  
**रुहानी**  
 अशारीरिक 139 12,  
 आत्मा विषयक 763.9  
 आध्यात्मिक 761.24  
**रुंक**  
 रुंक 298.28 ⇐  
**रुंग**  
 रुंग 1084.18 ⇐  
 रुंगते रुंगते  
 शिथिल गति से 1045.17  
**रुंगना**  
 घुटुरियों चलना 1083.21  
 रुंगना 1084.39 ⇐  
**रुंगने वाला**  
 रुंगने वाला 1084.48 ⇐

**रुंज (अँ)**  
 कुकिंग रुंज 109.18  
**रुंज**  
 नासिका मल 215 17  
**रुंड**  
 एरंड 196 16  
**रुंडन**  
 अडरण 118 6  
**रुंडना**  
 अडरना 118 12  
**रुंदी**  
 ककड़ी 190 12  
 बतिया 116 2  
**रुं**  
 ऋषभ स्वर 459 8  
**रुं (अँ)**  
 हॉगुर 125 15  
**रुंक**  
 मंडक 124 2  
**रुंक (अँ)**  
 रेलगाड़ी डिब्बा 1076 4  
**रुंकान**  
 बागर 552 7  
**रुंकार्ड (अँ)**  
 अभिलेख 412 18  
**रुंख**  
 नई कोमल दाढ़ी 136 4  
**रुंखता**  
 गजल 452 22  
**रुंखना**  
 चिह्न करना 407 21  
**रुंखांकन**  
 अधोरेखांकन 968 8  
**रुंखांकित**  
 अधोरेखांकित 968 39  
 उत्कीर्ण 406.41  
**रुंखांकित करना**  
 अधोरेखांकित करना 968 37  
**रुंखारा**  
 देशांश 10 14  
**रुंखा**  
 अंग चिह्न 261.35  
 उच्चक्रिल रेखा 968 15  
 एक आयाम 964 4  
 गणना 950 1  
 दंदाना 970 11  
 पक्ति 691 4  
 भुजा 968 27  
 मर्यादा 808.5  
 रेखा 968.6 ⇐  
 विभाजन सीमा 1001 7  
**रुंखा गणित**  
 ज्यामिति 956 1  
**रुंखाचित्र**  
 रेखाचित्र 404.17 ⇐  
 व्यक्ति वर्णन 449 6  
**रुंखा: लंबाई**  
 रेखिक माप 959 1



**रेखा विषयक**  
 रेखिक 968 38  
**रेखावृत्त आकृति**  
 भुजाकृति 969 2  
**रेखा संपात**  
 सपात बिंदु 968 5  
**रेखित**  
 गिना [गिनी] 950 12  
 चित्रांकित 404 36  
 तड़का [तड़की] 544 20  
 हस्ताक्षरित 444 37  
**रेखीया**  
 रेखिक 968 38  
**रेख्ता**  
 उर्दू 421 11  
**रेगना**  
 रेगना 542 10 ⇌  
**रेगमाल**  
 रेगमाल 559 32 ⇌  
**रेगमाल करना**  
 रेगना 542 10  
**रेगमाल कम**  
 रेगाई 542 2  
**रेगाई**  
 रेगाई 542 2 ⇌  
**रेगिस्तान**  
 मरुथल 11 11  
**रेगिस्तान का जहाज़**  
 ऊँट 127 27  
**रेगिस्तानी**  
 अनुर्वर (भूमि) 552 17  
**रेघक**  
 जवाखार 87 13  
 विरेघक 216 8  
**रेघन**  
 कैथारिस 399 15  
 श्वास त्याग 245 6  
**रेघ्य**  
 जुलाब 216 10  
**रेजगारी**  
 रेजगारी 629 23 ⇌  
**रेज़ा**  
 कणी 938 3  
 कीमा 206.26  
 खड 938 1  
 खुर्दा 666 14  
**रेजा**  
 घोली 585 38  
**रेज़िहा**  
 नज़ला 163 17  
**रेटिंग (अँ)**  
 खलासी 1080 22  
 नी सैनिक 934 13  
**रेडियस (अँ)**  
 अर्ध व्यास 972.14  
**रेडियो**  
 रेडियो 472.30 ⇌

**रेडियो (अँ)**  
 रेडियो 472 30  
 रेडियो रिसेवर 472 31  
**रेडियोग्राम (अँ)**  
 रेडियो रिसेवर 472 31  
**रेडियो तरंग**  
 रेडियो तरंग 1040 6 ⇌  
**रेडियो नाटक**  
 रेडियो नाटक 463 22 ⇌  
**रेडियो प्ले (अँ)**  
 रेडियो नाटक 463 22  
**रेडियो रिसेवर**  
 रेडियो रिसेवर 472 31 ⇌  
**रेडियो रिसेवर (अँ)**  
 रेडियो रिसेवर 472 31  
**रेडियो वेव (अँ)**  
 रेडियो तरंग 1040 6  
**रेडियो सैट (अँ)**  
 रेडियो रिसेवर 472 31  
**रेडू**  
 बाल बेयरिंग 1077 22  
 बेयरिंग 1077 21  
**रेणु**  
 कणी 938 3  
 त्रसरेणु 100 7  
 घूलि 100 4  
 पराग 115 12  
 रेत 100 1  
 रेह 87 15  
**रेणुका**  
 ऋषि स्त्री सूची 9 25  
 कणी 938 3  
 परशुराम माता 769 30  
 पृथ्वी 9 1  
**रेणुका 274 25 ⇌**  
 रेत 100 1  
**रेणुका सुत**  
 परशुराम अवतार 769 28  
**रेणुसार**  
 कपूर 274 14  
**रेतः**  
 दीर्घ 130 10  
**रेत**  
 कणी 938 3  
 किरकिरी 938 7  
 घूरा 938 17  
 बुरादा 936 31  
 मरुथल 11 11  
 रेत 100.1 ⇌  
**रेत की बीमार**  
 अल्प कालीनता. उक्ति सूची 38.9  
**रेत घड़ी**  
 रेतघड़ी 50 18  
**रेतघड़ी**  
 रेतघड़ी 50 18 ⇌  
**रेतः छोटा कण**  
 किरकिरी 938.7

**रेतना**  
 रेतना 542 11 ⇌  
**रेता**  
 कस 192 10  
 घूरा 938 17  
 बुरादा 938 31  
 रेत 100 1  
**रेताई**  
 रेताई 542 3 ⇌  
**रेती**  
 किरकिरी 938 7  
 घूरा 938 17  
 बालू तट 25 18  
 बुरादा 938 31  
 रेत 100 1  
 रती 559.33 ⇌  
**रेती कर्म**  
 रेताई 542 3  
**रेतीला [रेतीली]**  
 किरकिरा [किरकिरी] 197 28  
 रेतीला [रेतीली] 100 23 ⇌  
**रेतीली भूमि**  
 मरुथल 11 11  
**रेतीली मिट्टी**  
 दोमट 100 17  
 पीली मिट्टी 100 20  
**रेती से घिसना**  
 रेतना 542 11  
**रेनकोट (अँ)**  
 बरसाती कोट 585 53  
**रेन गेज (अँ)**  
 वर्षा मापी 958 41  
**रेनडियर**  
 रेनडियर 127 47 ⇌  
**रेनडियर (अँ)**  
 रेनडियर 127 47  
**रेनी**  
 अलगनी 1024 6  
**रेनु**  
 घूलि 100 4  
**रेयन**  
 रेयन 569.20 ⇌  
**रेयन (अँ)**  
 रासायनिक बस्त्र सूची 579 15  
 रेयन 569.20  
**रेल**  
 अत्यधिकता 944 2  
 धकेल 1051 12  
 धारा 21 14  
 रेल 597.21 ⇌  
 रेलगाड़ी 1071.66  
**रेल (अँ)**  
 रेल 597.21  
**रेल इंजन**  
 रेलगाड़ी इंजन 1078.10  
**रेलगाड़ी**  
 चुकचुक गाड़ी 476 10  
 रेलगाड़ी 1071.66 ⇌

**रेलगाड़ी इंजन**  
 रेलगाड़ी इंजन 1078.10 ⇌  
**रेलगाड़ी: डिब्बा**  
 रेलगाड़ी. डिब्बा 1076.4 ⇌  
**रेलठेल**  
 अत्यधिकता 944.2  
 भागदौड़ 1084 16  
**रेल डिब्बा**  
 रेलगाड़ी डिब्बा 1076 4  
**रेलना**  
 ठोकना 1051.30  
 धकेलना 1051 28  
**रेल पट्टी**  
 रेल मार्ग 1066 14  
**रेल पथ**  
 रेल मार्ग 1066.14  
**रेल परिवहन**  
 रेल सेवा 1068 6  
**रेलपेल**  
 अत्यधिकता 944 2  
 उत्सवपूर्णता 56 2  
 भागदौड़ 1084 16  
**रेलम पेल**  
 अत्यधिकता 944 2  
 भागदौड़ 1084 16  
**रेल मार्ग**  
 रेल मार्ग 1066 14 ⇌  
**रेल लाइन (अँ)**  
 रेल मार्ग 1066 14  
**रेलवे (अँ)**  
 रेल मार्ग 1066 14  
**रेलवे क्रासिंग**  
 रेलवे क्रासिंग 1064 15 ⇌  
**रेलवे क्रासिंग (अँ)**  
 रेलवे क्रासिंग 1064 15  
**रेलवे जंकशन**  
 रेलवे जंकशन 1069.4 ⇌  
**रेलवे जंकशन (अँ)**  
 रेलवे जंकशन 1069 4  
**रेलवे ट्रेन (अँ)**  
 रेलगाड़ी 1071.66  
**रेलवे प्लेटफार्म**  
 रेलवे प्लेटफार्म 1069.5 ⇌  
**रेलवे प्लेटफार्म (अँ)**  
 रेलवे प्लेटफार्म 1069.5  
**रेलवे यार्ड**  
 रेलवे यार्ड 1069.30 ⇌  
**रेलवे यार्ड (अँ)**  
 रेलवे यार्ड 1069.30  
**रेलवे स्टेशन**  
 रेलवे स्टेशन 1069.3 ⇌  
**रेलवे स्टेशन (अँ)**  
 रेलवे स्टेशन 1069.3  
**रेलवे स्लीपर**  
 स्लीपर 597 12  
**रेल सर्विस (अँ)**  
 रेल सेवा 1068.6

## रेल सेवा

### रेल सेवा

रेल सेवा 1068.6 ⇨

### रेला

अव्यवस्थित समूह 690.4

जल प्रवाह 21.9

तीव्र जल प्रवाह 21.10

धक्का 1051.13

प्रबल आक्रमण 914.7

प्रवाह 1041.1

संयोग 1042.10

समूह 690.1

### रेलिंग (अँ)

कटहरा 605.2

### रेवट

दक्षिणावर्त शंख 461.79

### रेवड

पशु समूह 690.9

भेड़ बकरी 127.8

भेड़ बकरी समूह 690.11

### रेवड़ी

रेवड़ी 203.38 ⇨

### रेवत

अमलतास 13.3

### रेवती

काली 776.3

गाय 127.10

दुर्गा 776.7

नक्षत्र सूची 4.6

### रेवतीभव

शनि ग्रह 7.8

### रेवती रमण

बलराम 771.74

### रेवा

दुर्गा 776.7

नर्मदा 20.16

रति 774.78

### रेश

नई कोमल दाढ़ी 136.4

### रेशम

रेशम 568.12 ⇨

रेशमी वस्त्र 579.10

### रेशम का कीड़ा

रेशम कीट 122.40

### रेशम कीट

कीट सूची 122.12

रेशम कीट 122.40 ⇨

### रेशम: कोया

रेशम: कोया 242.3 ⇨

### रेशम: डोरी

जरीब 959.22

### रेशम डोरी

रेशम डोरी 570.3 ⇨

### रेशम: धागा

रेशम 568.12

रेशम धागे पर लिपटी जरी

कलाबत्तू 569.14

### रेशमी

कोमल 269.18

ग्लोसी (प्रिंट) 405.7

थिकना [थिकनी] 269.22

रेशमी 568.17 ⇨

### रेशमी करेब

क्रेप द शिन 580.8

### रेशमी छादर

रेशमी छादर 585.12 ⇨

### रेशमी झालर

रेशमी झालर 571.41 ⇨

### रेशमीपन

थिकनापन 269.7

### रेशमी बंधनवार

रेशमी बंधनवार 1059.9 ⇨

### रेशमी रोटी

रुमाली रोटी 202.18

### रेशमी वस्त्र

रेशमी वस्त्र 579.10 ⇨

### रेशमी साड़ी

रेशमी साड़ी 586.17 ⇨

### रेशा

तंतु 569.1

तुष 526.5

भाजी रसा 201.24

रोआँ 569.4

स्नायु 131.13

### रेशियो (अँ)

अनुपात 947.9

### रेशोदार मूल

रेशोदार मूल 112.12 ⇨

### रेस (अँ)

जाति 730.1

दोड़ प्रतियोगिता 484.3

नस्ल 243.3

पैदल दोड़ 484.7

### रेस कार

रेस कार 1071.56 ⇨

### रेस कार (अँ)

रेस कार 1071.56

### रेसकोर्स (अँ)

दोड़ मैदान 1063.27

### रेस बोट (अँ)

धावन तरणी 1072.29

### रेसर (अँ)

धावन तरणी 1072.29

नौका सूची 1072.3

### रेसिज़्म (अँ)

प्रजातिवाद 884.33

### रेस्तोरी (अँ)

रेस्तोरी 194.8

### रेस्तारान

रेस्तोरी 194.8

### रेस्तोरी

रेस्तोरी 194.8 ⇨

### रेस्तोरी (फ़ा)

रेस्तोरी 194.8

### रेस्तोरी आहार

रेस्तोरी आहार 199.7 ⇨

### रेस्तोरी: आहार सूची

मैन्यू 199.8

### रेह

रेह 87.15 ⇨

### रेहन

बधक 633.18

बंधक वस्तु 633.26

बंधकित 633.38

### रेहनदार

बधक कर्ता 633.39

### रेहननामा

बधक पत्र 633.25

### रेहल

पुस्तक आधार 596.10

### रैच (अँ)

फार्म 551.2

### रैच (अँ)

रिच 559.46

### रैट (अँ)

भाड़ा 622.10

रैडम ऐक्सिस मैमरी (अँ)

रेम 951.27

रैडम सेलैब्रेशन (अँ)

लाटरी घयन 1009.5

### रैप

रैप 613.11 ⇨

### रैप (अँ)

रेप 613.11

### रै

अविराम गति 1049.2

गति 1042.1

संघलन 1037.4

### रैक (अँ)

खुली अलमारी 671.5

रैकारिंग डिपॉजिट अकाउंट (अँ)

आवर्ती जमा खाता 631.6

### रैकित

रैकित 479.32 ⇨

### रैकित (अँ)

रैकित 479.32

### रैक्टर

रैक्टर 744.35 ⇨

### रैक्टर (अँ)

रैक्टर 744.35

### रैक्टिंगल (अँ)

आयरा 969.5

### रैक्सिन

रैक्सीन 581.10

### रैक्सीन

रैक्सीन 581.10 ⇨

### रैक्सीन (अँ)

रैक्सीन 581.10

### रैक्सीन घमड़ा

रैक्सीन घमड़ा 581.11 ⇨

### रैखिक

एकांकीय 964.22

रैखिक 968.38 ⇨

### रैखिक आयाम

एक आयाम 964.4

### रैखिकता

एकायामता 964.5

### रैखिक नाप

रैखिक माप 959.1

### रैखिक माप

रैखिक माप 959.1 ⇨

### रैखिक मापन

रैखिक मापन 959.2 ⇨

### रैखिक मापी

रैखिक मापी 959.3 ⇨

### रैगुलेशन (अँ)

नियंत्रण कर्म 899.11

रैज़िग्नेशन लैटर (अँ)

त्यागपत्र 653.17

### रैजिमेंट

रैजिमेंट 932.31 ⇨

### रैजिमेंट (अँ)

रैजिमेंट 932.31

### रैज़ोल्यूशन (अँ)

पारित प्रस्ताव 329.7

### रैट

नासिका मल 215.17

### रैट स्नेक (अँ)

सर्प सूची 123.16

### रैटिना

रैटिना 141.9 ⇨

### रैटिना (अँ)

रैटिना 141.9

### रैटिकिकेशन (अँ)

अनुसमर्थन 337.9

### रैड कार्पेट

रैड कार्पेट 1059.15 ⇨

### रैड कार्पेट (अँ)

रैड कार्पेट 1059.15

### रैड लाइट (अँ)

लाल बत्ती 1067.14

### रैड वाइन (अँ)

लाल वाइन 209.16

### रैडिकल

रैडिकल 78.22 ⇨

### रैडिकल (अँ)

रैडिकल 78.22

### रैतुया

रायता 201.7

### रैव्य

पीतल बरतन 680.16

### रैन

रात 48.1

### रैनडैन (अँ)

धावन तरणी 1072.29

### रैन बल्लेरा

अल्प कालीनता उक्ति सूची 38.9

रैन बल्लेरा 618.16 ⇨

### रैना

रात 48.1

- रैनी**  
 रात 48 1  
**रैनोवेटिड (ऑ)**  
 नवीकृत 532.23  
**रैनोवेशन (ऑ)**  
 नवीकरण 532 12  
**रैप करना**  
 वेष्टि करना 592 11  
**रैपर (ऑ)**  
 पुस्तक आवरण 418 6  
 बैठन 415 13  
 वेष्टक 592 18  
**रैपिंग (ऑ)**  
 वेष्टन 592 5  
**रैसिका (ऑ)**  
 प्रतिरूप 967 9  
**रैकर करना**  
 अभ्युदेश करना 437 10  
**रैकरी (ऑ)**  
 खेल निर्णायक 475 17  
**रैक्रैस (ऑ)**  
 अभ्युदेश 437 5  
 सदर्थ 437 3  
**रैक्रैस बुक (ऑ)**  
 सदर्थ पुस्तक 446 20  
**रैक्रड (ऑ)**  
 अभ्युदेशित 437 11  
**रैफ्रिजरेटर**  
 रैफ्रिजरेटर 671 12 ⇐  
**रैफ्रिजरेटर (ऑ)**  
 रैफ्रिजरेटर 671.12  
**रैफ्रिजरेटिंग (ऑ)**  
 हिमन 105.3  
**रैफ्रिजरेटिड (ऑ)**  
 हिमित 105 23  
**रैबीज़ (ऑ)**  
 कुत्ता काटा 918 11  
 श्वानोन्माद 354 13  
**रैम**  
 रैम 951 27 ⇐  
**रैम (ऑ)**  
 रैम 951.27  
**रैमुनिया**  
 मुनियॉ 126 63  
**रैयत**  
 कृषक 548 2  
 प्रजा 883 6  
 लगानदार 553 3  
 संयक 651 25  
**रैयतदारी**  
 लगानदारी 553 2  
**रैली (ऑ)**  
 जुलूस 1088.7  
**रैयत**  
 दैत्य सूची 783 19  
 शिव 767.1  
**रैयतक**  
 गिरनार 17.3
- रैयत मनु**  
 मनु सूची 788 4  
**रैयत्य**  
 संपत्ति 624 1  
**रैशनलाइज़ेशन (ऑ)**  
 विवेकीकरण 325 15  
**रैशनलिज़म (ऑ)**  
 विवेकवाद 325 16  
**रैशनलिस्ट (ऑ)**  
 विवेकवादी 325 25  
**रैसिमी (ऑ)**  
 पाक विधि 195 4  
**रैस्ट हाउस**  
 रैस्ट हाउस 1090 27 ⇐  
**रैस्ट हाउस (ऑ)**  
 रैस्ट हाउस 1090.27  
 विश्राम स्थल 1090 19  
**रैस्टोर्ट (ऑ)**  
 रेस्तोरॉ 194 8  
**रौआँ**  
 रौआँ 569 4  
**रौंगटा**  
 रौआँ 569 4  
 शरीर रोम 135 1  
**रौंघ**  
 गरत 1083 16  
**रौंदाई**  
 दँवरी 548 21  
**रौआँ**  
 केश 137 1  
 ततु 569 1  
 नव रोम 135 2  
 मूँछ आरम्भिक रूप 136 6  
 रौआँ 569.4 ⇐  
 शरीर रोम 135 1  
**रौँददार**  
 रौँददार 569 31 ⇐  
 रोमल 135 11  
**रौक**  
 अननुमति 338.3  
 अवरोध 1047 8  
 आबद्धन उपकरण 1013 7  
 निषेध 880 1  
 प्रतिरोध 915 1  
 बारेज 22.3  
 विराम 1048.1  
 यिलंब 495 1  
 संयम 808.8  
**रौकटोक**  
 अननुमति 338.3  
 नियंत्रण 899.10  
**रौकटोकहीनता**  
 अनिषेध 880 2  
 नियंत्रणहीनता 900.2  
**रौकड़**  
 केश बाक्स 630.4  
 जमा पूँजी 628.8  
 धन राशि 628 4
- रौकड़ 630.9 ⇐**  
**रौकड़ अग्रिम**  
 रौकड़ अग्रिम 630.11 ⇐  
**रौकड़ उधत**  
 रौकड़ उधत 630 10 ⇐  
**रौकड़ पर्ची**  
 केश मीमो 632.26  
**रौकड़ पेटी**  
 केश बाक्स 630 4  
**रौकड़ बही**  
 रौकड़ बही 632.19 ⇐  
**रौकड़ बिक्री**  
 नरूद सौदा 658 5  
**रौकड़ा**  
 रौकड़ 630.9  
**रौकड़िया**  
 कैशियर 630.13  
 कोशाध्यक्ष 630.12  
**रौकड़ी लेनदेन**  
 नरूद सौदा 658 5  
**रौकधाम**  
 नियंत्रण 899.10  
 निवारण 920.4  
 रोग निवारण 170 1  
 रोधन 920.5  
**रौकन**  
 विरामण 1048 2  
**रौकना**  
 अनुमति न देना 338.19  
 गति हरना 1047 15  
 नियंत्रित करना 899 20  
 निवारण करना 920 14  
 निषिद्ध करना 880 6  
 प्रहार बघाना 920 13  
 रोधित करना 920 15  
 वर रोक 800 45  
 विराम करना 1048 4  
**रौकनी**  
 टेक रौका 596.6  
**रौकने वाला**  
 विराम कर्ता 1048 7  
**रौक लगा [रौक लगी]**  
 निषिद्ध 880 12  
**रौक लगाने वाला**  
 निषेध कर्ता 880.11  
**रौका**  
 डाट 675 11  
 रौका 675.14 ⇐  
**रौका [रौकी]**  
 विरामित 1048.6  
**रौग**  
 रौग 163.1 ⇐  
**रौग अवकाश**  
 रौग अवकाश 494 12 ⇐  
**रौग आक्रमण**  
 रौग आक्रमण 169.1 ⇐  
**रौगग्रस्त**  
 रौगग्रस्त 162.5 ⇐
- रौगग्रस्तता**  
 रौगग्रस्तता 162.1 ⇐  
**रौगग्रस्त होना**  
 रौगग्रस्त होना 162.4 ⇐  
**रौग तीव्रता**  
 रौग तीव्रता 163.10 ⇐  
**रौगन**  
 तेल 196.10  
 तेल रंग 290 6  
**रौगनगर**  
 तेली [तेलिन] 83.9  
**रौगनगरी**  
 तेल निष्कर्षण 83.2  
**रौगनगरीरी**  
 तेल निष्कर्षण 83 2  
**रौगनदाग**  
 हुँकाई कलछा 681.3  
**रौग नाशक**  
 स्वास्थ्यप्रद 161 6  
**रौग निदान**  
 रौग निदान 171.2 ⇐  
**रौग निरोधक**  
 रौग रोधक 170.6  
**रौग निवारक**  
 रौग निवारक 170.5 ⇐  
**रौग निवारण**  
 रौग निवारण 170.1 ⇐  
**रौग प्रतिरोधन**  
 रौग निवारण 170 1  
**रौगप्रद**  
 स्वास्थ्यहर 162 6  
**रौग भ्रम**  
 रौग भ्रम 353.7 ⇐  
**रौगमुक्त**  
 धिकित्सित 171.19  
**रौगमुक्त करना**  
 धिकित्सा करना 171.16  
**रौगमुक्त होना**  
 आरोग्य, लाभ होना 171.17  
**रौग मुक्ति**  
 आरोग्य लाभ 171.1:  
**रौग मोक्ष**  
 आरोग्य लाभ 171.11  
**रौग मोघन**  
 धिकित्सन 171.8  
**रौगराज**  
 क्षय रौग 163.35  
**रौग रोधक**  
 रौग रोधक 170.6 ⇐  
**रौग लगना**  
 रौगग्रस्त होना 162.4  
**रौग विकृति**  
 रौग विकृति 163.11 ⇐  
**रौग विस्तार**  
 रौग विस्तार 163.12 ⇐  
**रौग संक्रमण**  
 रौग संक्रमण 169.8 ⇐

## रोगहर

रोगहर  
स्वास्थ्यप्रद 161.6  
रोग हरण  
धिकित्सन 171.8  
रोग हरना  
धिकित्सा करना 171 16  
रोगहारी  
धिकित्सक 171 13  
रोगहीन  
स्वस्थ 161.5  
रोगहीनता  
स्वस्थता 161 3  
रोगाणु  
रोगाणु 122.5 ⇨  
रोगाणु नाशक  
रोगाणु नाशक 170 7 ⇨  
रोगाणु  
रोगग्रस्त 162 5  
रोगार्त  
रोगग्रस्त 162 5  
रोगी  
रोगग्रस्त 162 5  
रोगी 162 3 ⇨  
रोगी [रोगिणी]  
रोगी 162.3  
रोगी वाहनी  
ऐबुलेस 1070 11  
रोगी वाहिका  
ऐबुलेस 1070.11  
रोगोत्तर स्वास्थ्य लाभ  
आरोग्य लाभ 171 11  
रोगोद्भिन्नता  
रोग भ्रम 353.7  
रोगोपचार  
धिकित्सा 171 1  
रोगक  
पठनीय 400.14  
रोगक 400.12 ⇨  
विश्वेदेव सूची 777.10  
स्वादिष्ट 275.20  
रोगकता  
पसंदगी 400.3  
रोगकता 400.4 ⇨  
स्वादिष्टता 275 10  
रोगकताहीन  
अरोगक 401 10  
रोगक न लगना  
अरोगक लगना 401 6  
रोगन  
अमलतास 13.3  
दीप्त 287.34  
रोली 225 17  
रोगना  
गोरोगन 274 19  
तिलक 225.19  
बॉस निर्यास 84.10  
रक्त कमल 14 6  
रोगना 274.26 ⇨

रोचनी  
तारा देवी 774 39  
रोधि  
प्रकाश किरण 288 1  
रोधिष्णु  
क्षुधा वर्धक 180 17  
शिव 767 1  
रोज़दार  
अमानीदार 643.13  
रोज़दार 643.17 ⇨  
रोज़दारी  
रोज़दारी 643 15 ⇨  
रोज़दारी आय 643.16  
रोज़दारी: आय  
रोज़दारी आय 643 16 ⇨  
रोज़  
अहोरात्र 46 10  
रोज़  
प्रति दिन 1049 20  
रोज़  
सप्ताह. वार 46 2  
रोज़ (अँ)  
गुलाब 14 13  
रोज़गार एजेंसी  
रोज़गार एजेंसी 650.3 ⇨  
रोज़गार कार्यालय  
रोज़गार कार्यालय 650.2 ⇨  
रोज़गार शिक्षा  
प्रशिक्षा 321 19  
रोज़नामचा  
डायरी 41 5  
रोज़नामचा 632.20 ⇨  
समाचार पत्र 445 1  
रोज़नामा  
दैनिक 71.14  
समाचार पत्र 445 1  
रोज़ बरोज़  
प्रति दिन 1049 20  
रोज़मर्रा  
प्रति दिन 1049 20  
रोज़ रोज़  
प्रति दिन 1049.20  
रोज़बुड (अँ)  
काष्ठ सूची 597 2  
रोज़ा  
मरुबरा 255.7  
मज़ार 255.8  
रोज़ा 745.19 ⇨  
रोज़े 57.54  
व्रत उपवास 748.1  
समाधि मंदिर 745.40  
स्मारक 255.1  
स्मारक: प्रकार सूची 77.13  
रोज़ा इस्लाम  
रोज़ा इस्लाम 748.11 ⇨  
रोज़ा इस्लामी  
रोज़ा इस्लाम 748 11

रोज़ाकश  
रोज़ादार 748 8  
रोज़ा कुराई  
रोज़ा इस्लाम 748.11  
रोज़ा खुलाई  
रोज़ा इस्लाम 748 11  
रोज़ा तोकना  
उपवास अंत करना 748 18  
रोज़ादार  
रोज़ादार 748 8 ⇨  
रोज़ादारी  
रोज़ादारी 748 7 ⇨  
रोज़ा नमाज़  
धर्म कर्म 747 1  
रोज़ाना  
दैनिक 71 14  
प्रति दिन 1049 20  
रोज़ा रखना  
उपवास रखना 748 17  
रोज़ायार  
रोज़ादार 748 8  
रोज़ायारी  
रोज़ादारी 748 7  
रोज़ी  
आजीविका 650 1  
रोज़े  
रोज़े 57 54 ⇨  
रोज़े 74E 6 ⇨  
रोज़े क्रयामत  
क्रयामत दिन 530 4  
रोज़े हश्म  
क्रयामत दिन 530 4  
रोज़े हिसाब  
क्रयामत दिन 530.4  
रोज़ों के दिन  
रोज़े 748 6  
रोट  
रोट 202 19 ⇨  
रोटका  
बाजरा 187 16  
रोटका  
रोट 202.19  
रोटिका  
रोटी 202 14  
रोटी  
आहार पदार्थ 186 1  
रोटी 202.14 ⇨  
रोटी कपड़ा  
आजीविका 650 1  
रोटीदार  
भोज भृतिक 643.11  
रोटीदारी  
भोज भृति 643.10  
रोटी बेनी बंद  
जाति निर्वासन 870 11  
रोटी रोज़ी  
आजीविका 650 1

रोटीरोज़ीयाब  
प्रगतिवाद 884 16  
रोटीयाब  
साम्यवाद 884 19  
रोटी: संबंध  
राहभोज अधिकार 183.3  
रोटेटर  
रोटेटर 1078.18 ⇨  
रोटेटर (अँ)  
घूर्णित्र 1077 32  
रोटेटर 1078 18  
रोड (अँ)  
महल्ला 619 6  
सड़क 1063 33  
रोड आइलैंड  
रोड आइलैंड 1064.7 ⇨  
रोड टैक्स (अँ)  
पथ कर 647 22  
रोड ट्रांसपोर्ट अधारिटी (अँ)  
यातायात विभाग 1067 8  
रोड बैरियर (अँ)  
नाका 1064 9  
रोड साइन  
रोड साइन 442 16 ⇨  
रोड साइन (अँ)  
रोड साइन 442 16  
रोडस्टैड (अँ)  
खुला बंदरगाह 1069 9  
रोड़ा  
अवरोध 1047 8  
रोड़ा 938.48 ⇨  
रोड़ी 938 49  
रोड़ा अटकाना  
अवरुद्ध करना 1047.19  
रोड़ी  
इंदोरा 938.34  
कंकरीट 938 37  
गिट्टी 938 39  
पाषाण खड 938 33  
रोड़ी 938.49 ⇨  
रोड़ीदार  
कैकडीला [कैकडीली] 987 7  
रोड़ी: सड़क  
कुटी सड़क 1063 42  
रोला [रोती]  
अश्रुपूर्ण 387.7  
रोते झींकते  
अनुद्यतत: 492.20  
कठिनत: 519.31  
रोते रोते  
अनुद्यतत: 492.20  
कठिनत: 519.31  
रोते रोते हिचकी बैबना  
हिचकी लगना 386 26  
रोदन  
रुदन 386.1  
रोदसी  
धरती आकारा 2.2

पृथ्वी 9.1	रोना [रोनी]	रोबट (अँ)	रोमल चर्म
रोदा	रुदनशील 386 29	यंत्र मानव 558.11	फ़र 582 17
तौत 589.5	रोना धोना	रोबटाइप (अँ)	रोमल पंख
ग्रनुष प्रत्यंघा 926.15	आर्तनाघ 38९ 3	रोबोटोकृत 1046.29	कोमल पंख 151.4
शाखा 114.10	मृत्यु विलाप 253.15	रोबदाब	रोम लहरी
रोध	मृत्यु शोक कर्ता 253 33	प्रताप 849 5	रोम लहरी 135.7 ⇌
अवरोध 1047 8	रोना धोना [रोनी धोनी]	रोबदार	रोमयाब
गति प्रतिरोध 1047.5	रुदनशील 386.29	प्रतापशाली 849.19	कैथलिक मत 736.20
ढक्कन 675.6	रोने बाला	रोबिन (अँ)	रोम विरोध
प्रतिरोध 915 1	मृत्यु शोक कर्ता 253 40	गायक पक्षी सूची 126.9	प्रोटैस्टेंट मत 736.22
बाइ 604 10	रोम	रोबीला [रोबीली]	रोमरा
रोधन 920 5	आबद्धन उपकरण 1013 7	प्रतापशाली 849 19	झबरीला 137 26
यिलाब 495 1	पाश 1013 8	रोबोटोकृत	रोएँदार 689.31
रोधक	रोपक	रोबोटोकृत 1046.29 ⇌	रोमल 135.11
अवरोधक 104. 28	रोपक 548 53 ⇌	रोमंध	रोम शाही
रोधक 272.11 ⇌	रोपण	जुगाली 181 19	साम्राज्यवाद 884 12
रोधक 920 22 ⇌	रोपण 548 8 ⇌	रोमंधक	रोम हर्ष
विराम कर्ता 1048 7	यशीकरण 58 22	जुगाली करने वाला 181.59	रोमांघ 382.6
रोधक लगाना	रोपण (दे.)	रोम	रोम हर्षक
अवरुद्ध करना 1047.19	दृढ़ आधारण 1019.7	ऊन 588 9	रोमांघक 382 22
रोधन	विजडन 1016.1	कोमल पंख 151 4	रोमहीन
अयरोधन 1047 9	रोपण कर्ता	पशु रोम 135 3	रोमहीन 135.12 ⇌
रोधन 272.4 ⇌	रोपक 548.53	मूँछ. आरंभिक रूप 136 6	रोमांघ
रोधन 920 5 ⇌	रोपणार्थ उखड़ी पिंडी	रोआँ 589 4	भयानक रस 455.15
वेग अयरोधन 1043 3	रोपणार्थ उखड़ी पिंडी 548.10 ⇌	शरीर रोम 135 1	रोमांघ 382.6 ⇌
रोधन करना	रोपणार्थ उखाइ	रोम कूप	रोमांघक
अवरुद्ध करना 1047 19	रोपणार्थ उखाइ 548.9 ⇌	रोम रंग 135 10	रोमांघक 382.22 ⇌
रोध न करना	रोपना	रोम गुच्छ	रोमांघक कहानी
अवरोध न करना 1049 8	घिनना 599 37	घामर 85.28	रोमांघ कथा 450.6
रोधना	रोपित करना 548 36	रोम घक्र	रोमांघ कथा
भनोबाधा 354 2	सस्थापित करना 693 5	रोम घक्र 135.8 ⇌	रोमांघ कथा 450.6 ⇌
रोधित करना 920 15	रोपवे (अँ)	रोम: घर्ष	रोमांघ होना
रोधहीन	रज्जु मार्ग 1086 4	कैथलिक मत 736 20	रोमाधित होना 382.14
अवरोधहीन 1049 13	रोपवे कार (अँ)	रोमज	रोमाधित
रोधहीनत:	रज्जु यान 1071 64	ऊनी वस्त्र 579 9	अति आनंदित 382 20
अवरोधहीनत 1049 23	रोपा [रोपी]	रोभन	रोमाधित 382 21 ⇌
रोधहीनता	रोपित 548 52	रोमन 413.16 ⇌	रोमाधित होना
अवरोधहीनता 1049.4	रोपाई	रोमन (अँ)	रोमाधित होना 382.14 ⇌
रोधात्मक	रोपण 548 8	रोमन 413 16	रोमाटिक कहानी
अवरोधात्मक 1047 26	रोपाई कर्ता	रोमन अंक	प्रेम कथा 450.4
रोधित	रोपक 548 53	रोमन अंक 948.6 ⇌	रोमाटिक हीरो (अँ)
प्रतिरोधित 915 10	रोपित	रोमन अंक (1, 2, 3, 4, 5, 10)	प्रेमी नायक 467 6
रोधित 920.21 ⇌	रोपित (दे.)	रोमन अंक 948 6	रोमांस
रोधित करना	विजडित 1016 42	रोमन कैथलिक	प्रेम 388 1
रोधित करना 920 15 ⇌	रोपित करना	कैथलिक मतावलंबी 736 21	रोमांस 388.9 ⇌
रोधित्र	रोपित करना 548 36 ⇌	रोमन कैथलिक मत	संयोग शृंगार 455.22
वेग रोधक 1043 9	रोब	कैथलिक मत 736 20	रोमांस नायक
रोधित्र (प्र)	आतक 395 5	रोम पाट	प्रेमी नायक 467.6
इसुलेटर 102 16	ख्याति 847 1	ऊनी वस्त्र 579 9	रोमा
रोधी	प्रताप 849.5	रोम रंध	बनत 580 33
अयरोधक 1047 28	प्रतिष्ठा 849 2	त्वघा रंग सूची 134 5	रोमाजिन
प्रतिरोधी 915 11	महत्त्व 852.1	रोम रंग 135 10 ⇌	फ़र 582 17
रोधक 920 22	रोब (अँ)	रोमराजि	रोमायली
रोना	गाउन 585 48	पेट पेकू रोम 135 6	पेट पेकू रोम 135.6
औसू बहाना 387 6	रोब झाड़ना	रोमल	रोमोद्गम
रुदन 386.1	अभिमान प्रदर्शन करना 858.8	झबरीला 137.26	रोमांघ 382.6
रोना 386.16 ⇌		रोएँदार 569 31	रोर
		रोमल 135.11 ⇌	ध्वनि 294 1

## रोल

### रोल

तीव्र जल प्रवाह 21.10

### रोल (अं)

पात्र भूमिका 467.2

### रोलर स्केटिंग

रोलर स्केटिंग 477.20 ⇌

### रोला

आर्तनाद 386.3

कोलाहल 294.8

धक्का 1051.13

प्रवाह 1041.1

बेलन 560.5

### रोली

फर्कूद 549.9

रोली 225.17 ⇌

### रोल्ड गोल्ड

रोल्ड गोल्ड 95.8 ⇌

रोल्ड गोल्ड (अं)

रोल्ड गोल्ड 95.8

### रोबनहार

रुदनशील 386.29

रोबनहारा [रोबनहारी]

मृत्यु शोक कर्ता 253.40

रोबना [रोबनी]

रुदनशील 386.29

### रोबनिया

रुदनशील 386.29

### रोबी

रोआँ 569.4

रोबासा [रोबासी]

रुआँसा [रुआँसी] 386.28

### रोशन

आलोकित 285.45

उद्घाटित (रहस्य) 822.25

दीप्त 287.34

### रोशान चौकी

रोशन चौकी 461.9 ⇌

रोशन चौकी सूची

रोशन चौकी सूची 461.10 ⇌

### रोशनदान

रोशनदान 608.20 ⇌

### रोशानाई

स्याही 416.25

### रोशानी

आतिशबाज़ी 56.5

दीपक 285.13

प्रकाश 287.1

प्रकाश उपकरण 285.6

### रोष

क्रोध 373.1

झल्लाहट 373.10

रुष्टि 374.2

### रोष करना

रुठना 374.11

### रोष निवारण

मनुहार 374.6

### रोषवती

मानवती 374.18

1486

### रोबी

क्रोधी 373.29

### रोहती

लता 111.17

### रोह

अंकुर 113.1

आरोह 458.3

ऊर्ध्वगमन 1030.3

### रोहक

आरोही 1082.2

### रोहण

अंकुरण 117.1

आरोहण 1082.1

ऊर्ध्वगमन 1030.3

### रोहणक

लिप्त 613.13

### रोहण कक्ष

लिप्त 613.13

### रोहणी

रेलिवेटर 613.12

### रोहना

आरोहित होना 1082.25

### रोहिण

गूलर 190.16

### रोहिणी

किशोरी 230.29

कृष्ण. विमाता 771.10

गाय 127.10

नक्षत्र सूची 4.6

नयकुमारी सूची 774.29

रोहिणी 771.85 ⇌

रोहिणी 774.79 ⇌

### रोहिणीरा

घट्टना 8.2

वसुदेव 771.86

### रोहित

ऊर्ध्वगत 1030.23

रुधिर 131.1

रोहू 125.11

विष्णु 768.1

### रोहिताश्व

अग्नि 106.1

### रोहिष

रोहू 125.11

### रोही

बरगद 13.16

### रोहू

मत्स्य अवतार 769.32

रोहू 125.11 ⇌

### रौंड

गश्त 1083.16

### रौब

रौदाई 541.4

### रौदन

मर्दन 911.1

### रौदना

दँवरी करना 548.40

दमन करना 911.8

नष्ट करना 531.5

निष्कर्षित करना 83.11

पददलित करना 911.9

मर्दन करना 911.6

रौदना 541.8 ⇌

### रौब लगाना

गश्त लगाना 1083.23

### रौब लेना

गश्त लगाना 1083.23

### रौबा [रौबी]

निष्कर्षित 83.14

### रौबाई

निष्कर्षण 83.1

रौदाई 541.4 ⇌

### रौ

अविराम गति 1049.2

आदेश 371.1

उन्माद 354.4

एक घाय 484.2

जल प्रवाह 21.9

प्रवाह 1041.1

मन तरंग 351.6

संयोग 1042.10

### रौकिंग घेअर

रौकिंग घेअर 595.25 ⇌

रौकिंग घेअर (अं)

रौकिंग घेअर 595.25

रौकिंग घेयच् (अं)

दोलन कुरसी 1034.16

रौकिंग हीर्स (अं)

दोलन घोड़ा 1034.15

रौकिट (अं)

राकेट 1075.1

रौकिट बम (अं)

राकेट बम 1075.5

### रौकेट

आतिशबाज़ी सूची 56.6

रौकेट (अं)

राकेट 927.19

रौकेटियर (अं)

राकेट घालक 1081.41

रौकेट्री (अं)

राकेट संघालन 1081.40

### रौद्र

क्रोध 373.1

भयानक 395.25

विकराल 154.23

### रौद्रता

भयानकता 395.7

मारकता 251.2

विकरालता 154.8

### रौद्र रस

नवरस सूची 455.11

रौद्र रस 455.16 ⇌

### रौनक्र

आनंद मंगल 382.3

आवासितता 616.6

उत्सवपूर्णता 56.2

वीप्ति 287.16

वैभव 226.5

शोभा 226.1

सजधज 226.8

रौनक्र अक्ररोज़ होना

बैठना 1028.8

### रौनक्रघार

आनंदपूर्ण 382.16

### रौनक्री

शोभायुक्त 226.11

### रौनक्रे महकिल

गोष्ठी शोभा 694.5

### रौप्य

घाँदी 95.3

### रौप्यक

रूपया 629.20

### रौप्यता

रजतिमा 289.17

### रौप्य माक्षिक

रूपामाखी 92.10

### रौब

हेकड़ी 734.10

### रौम

रौम 951.28 ⇌

रौम (अं)

रौम 951.28

### रौर

घोर ध्वनि 294.6

### रौरय

कोलाहलपूर्ण 294.30

नरक सूची 259.7

भयानक 395.25

विकराल 154.23

### रौल

कोलाहल 294.8

घोर ध्वनि 294.6

रौलर कोस्टर (अं)

तूफान झुला 1034.13

रौलर बेयरिंग

रौलर बेयरिंग 1077.23 ⇌

रौलर बेयरिंग (अं)

रौलर बेयरिंग 1077.23

रौलर स्केट (अं)

पहिया स्केट 588.37

रौलर स्केटिंग (अं)

रोलर स्केटिंग 477.20

### रौला

आर्तनाद 386.3

कोलाहल 294.8

मंगल वाद्य ध्वनि 796.10

### रौस

कैटयाक 1065.4

गतिशीलता 1042.2

### रौहिण

चंदन 274.20

### रौहिण्य

बलराम 771.74

बुध ग्रह 7.5

ल			
लंक	लैंगका [लैंगकी]	लैंगोटिया यार	लंपट
कटि 147.7	लैंगका 153 19	बाल मित्र 705.12	कामुक 237.14
श्रीलंका 27 17	लैंगका कर चलना	लंघक	लारुंगा 811.8
लंक टंकटा	लैंगकाना 1084.40	अतिक्रामक 1001.42	व्यभिचारी 806.10
असुरादि जोड़ी सूची 783.4	लैंगकाना	अवज्ञा कर्ता 348.7	लंपटता
राक्षस स्त्री सूची 784.23	लैंगकाना	नियम भंजक 879.21	लारुंगापन 811.3
लंकड्वीप	लैंगका लूला	मर्यादा उल्लंघक 809.8	विवाह अनिच्छा 806.1
श्रीलंका 27 17	लैंगका लूला [लैंगकी लूली]	लंघक 1097.22 ⇌	लंपटतापूर्ण
लंकनाथ	लैंगका लूला 153.20	लंघन	अश्लील 734.19
रावण 784 12	लैंगका लूला 153 20	अभोजन 181.5	लंपटा
लंकलाट	लैंगका लूला 153 20	अवज्ञा 348.1	व्यभिचारिणी 806 11
लटटा 580 38	लैंगका लूला 153 20	छलौंग 1086.10	लंपाक
लंका	लैंगकाहट	नियम भंजन 879 8	लारुंगा 811 8
पट्टी पकाने वाली 332 17	लैंगकी घाल 1084 19	मर्यादा उल्लंघन 809.2	व्यभिचारी 806.10
श्रीलंका 27 17	लैंगकी घाल	लघन 1097 7 ⇌	लंक
लंकाई	लैंगकी घाल	व्रत उपवास 748 1	कूद 1086 3
श्रीलंकाई 27.30	लैंगकी घाल	सीमातिक्रमण 1001.27	लंब
लंका कांड	लैंगकी घाल	लंघनक	परिशिष्ट 447.10
रामचरित मानस कांड 770 16	लैंगकी घाल	पुल 1065 6	लंब रेखा 968.34
लंका रहन	लैंगकी घाल	लंघन कर्ता	शयित 1027 15
रामलीला प्रसंग सूची 57.13	लैंगकी घाल	लंघक 1097 22	लंब आयताकार
लंकावाही	लैंगकी घाल	लंघनकारी	लंब आयताकार 969.16 ⇌
हनुमान 781 19	लैंगकी घाल	मर्यादा उल्लंघक 809 8	लंबक
लंका द्वीपीय	लैंगकी घाल	लैधा [लैधी]	लंब रेखा 968.34
श्रीलंकाई 27 30	लैंगकी घाल	लंधित 1097 21	लंबकर्ण
लंकाधिपति	लैंगकी घाल	लैधाई	खरगोश 127 63
रावण 784.12	लैंगकी घाल	लघन 1097 7	गधा 127 30
विभीषण 784 21	लैंगकी घाल	लंधित	राक्षस 784 1
लंकानाथ	लैंगकी घाल	अवज्ञाकृत 348 6	लंब कोण
विभीषण 784 21	लैंगकी घाल	आक्रांत 914 18	समकोण 970 2
लंका: निर्माता	लैंगकी घाल	लंधित 1097.21 ⇌	लंबप्रीव
कुबेर 779 4	लैंगकी घाल	व्यतीत 74.3	ऊंट 127 27
लंकापति	लैंगकी घाल	लंघ (अँ)	लंब तड़ंग
रावण 784 12	लैंगकी घाल	याहन आहार 199 3	लंबा तगड़ा 154 15
विभीषण 784 21	लैंगकी घाल	लंघ टाइम (अँ)	लंबता
लंकारि	लैंगकी घाल	आहार काल सूची 199 2	प्रतिक्षिप्तता 1020 4
राम 770 1	लैंगकी घाल	भोजन अवकाश 494 5	लंबता 968.33 ⇌
लंकावासी	लैंगकी घाल	लंघ बाक्स (अँ)	शयिता 1027.7
राक्षस 784 1	लैंगकी घाल	टिफिन कैरियर 678 9	लंबन
लंकिनी	लैंगकी घाल	लंघ ब्रेक (अँ)	आधार ग्रहण 1019.6
राक्षस स्त्री सूची 784 23	लैंगकी घाल	भोजन अवकाश 494 5	प्रलंबन 1024.1
लंकेरा	लैंगकी घाल	लंघ रुम (अँ)	शरण 910 4
रावण 784 12	लैंगकी घाल	लंघ कक्ष 194 9	लंबनीय
विभीषण 784.21	लैंगकी घाल	लंजा	लंबनीय 545.35 ⇌
लंकेश्वर	लैंगकी घाल	उत्स्रोत 21 1	विश्वसनीय 340.13
रावण 784 12	लैंगकी घाल	लंठ	लंबनीयता
विभीषण 784 21	लैंगकी घाल	घृष्ट 734.20	लंबनीयता 545.20 ⇌
लंग	लैंगकी घाल	परंपरावादी 343 23	लंबमान
जार 806 5	लैंगकी घाल	मदधी 302 8	अनुक्षितिज 1020 12
लैंगका 153.19	लैंगकी घाल	राजधी 302 9	विस्तीर्ण 981 10
लैंगकी घाल 1084 19	लैंगकी घाल	लंठाचार्य	लंबर
लौंग 586.31	लैंगकी घाल	परंपरावादी 343 23	बारी 70.8
लैंगका	लैंगकी घाल	मूर्ख व्यक्ति 302.2	लंब रेखा
आम सूची 190.10	लैंगकी घाल	लंठरानी	लंब रेखा 968.34 ⇌
लैंगका 153.19 ⇌	लैंगकी घाल	डींग 842.4	लंबवृत्त
	लैंगकी घाल	संदराज	अंडवृत्त 972 2
	लैंगकी घाल	मोटी घादर 593.22	लंब सूत्र
	लैंगकी घाल		साहुल डोरी 559.53

## लंबाशा

### लंबाशा

देशांश 10.14

### लंबा [लंबी]

अल्पधिक 944.7

अधिक 944.5

आकार से बड़ा 981.18

दीर्घ कालीन 37.10

दूरस्थ 32.7

नीचा [परिधान] 583.25

प्रसारित 979.17

लंब अक्षयताकार 989.16

लंबाई युक्त 985.10

लंबे क्रम वाला 154.13

विलंबित 495.11

विस्तीर्ण 981.10

शयित 1027.15

### लंबाई

एकायामता 984.5

क्रम 154.2

चार आयाम सूची 984.13

तीन आयाम सूची 984.10

दो आयाम सूची 984.7

शैक्षिक माप 959.1

लंबाई 985.2 ⇌

लंबाई माप 958.12

लंबा क्रम 154.3

### लंबाई चौकाई

प्रसार 979.3

लंबाई चौकाई 985.1 ⇌

विस्तार 981.2

विस्तीर्णता 981.1

### लंबाई माप

लंबाई माप 958.12 ⇌

लंबाई माप एकक

लंबाई माप एकक 958.10 ⇌

### लंबाई युक्त

लंबाई युक्त 985.10 ⇌

### लंबा क्रम

लंबा क्रम 154.3 ⇌

### लंबाकार

लंब आयताकार 989.16

### लंबा खिचना

विलंब होना 495.6

### लंबा गोल घेरा

अंडयुक्त 972.2

### लंबा चौका [लंबी चौकी]

महाकाय 154.22

विस्तीर्ण 981.10

### लंबा डंड

डंड सूची 485.10

### लंबा डग

लंबा पद 1083.4

### लंबा तगड़ा

लंबा तगड़ा 154.15 ⇌

### लंबा तर्कगा [लंबी तर्कगी]

लंबा तगड़ा 154.15

### लंबान

शैक्षिक माप 959.1

लंबाई 985.2

लंबाई माप 958.12

### लंबान चौकान

लंबाई चौकाई 985.1

### लंबा पतला

लंबा पतला 154.16 ⇌

लंबा पतला [लंबी पतली]

लंबा पतला 154.16

### लंबा पद

लंबा पद 1083.4 ⇌

### लंबा पद भरना

लंबा पद भरना 1083.20 ⇌

### लंबापन

लंबाई 985.2

लंबा क्रम 154.3

### लंबा मोटा

लंबा मोटा 154.17 ⇌

लंबा मोटा [लंबी मोटी]

लंबा मोटा 154.17

### लंबायमान

अनुक्तिज 1020.12

प्रसारित 979.17

विस्तीर्ण 981.10

शयित 1027.15

### लंबायमानता

शायिता 1027.7

### लंबायमान होना

लेटना 1027.9

### लंबा व्यक्ति

लंबा व्यक्ति 154.4 ⇌

### लंबिका

ललरी 134.12

### लंबित

खड़ा [खकी] 1029.11

प्रलंबित 1024.10

शयित 1027.15

### लंबितता

शायिता 1027.7

### लंबी [लंबिनी]

प्रलंबित 1024.10

### लंबी उमर

दीर्घ आयु 229.6

### लंबी उन्न

दीर्घ कालीनता 37.4

### लंबी काट

खकी काट 543.5

### लंबी क्रम

लंबी क्रम 1086.6 ⇌

### लंबी चौकी बात

डिंग 842.4

### लंबी चौकी हीकना

डिंग मारना 842.9

### लंबी डीली पोशाक

लंबावा 585.19

### लंबी तरंग

लिंग वेव 1040.11

### लंबी दीक

लंबी दीक 484.10 ⇌

### लंबी पद यात्रा

हाइक 1087.9

### लंबी लंबाई

युद्ध 905.4

### लंबी लकड़

राष्ट्रीय राजमार्ग 1083.40

### लंबू

लंबा व्यक्ति 154.4

### लंबू राम

लंबा व्यक्ति 154.4

### लंबे क्रम वाला

लंबे क्रम वाला 154.13 ⇌

### लंबे केश वाला

लंबे केश वाला 137.27 ⇌

### लंबे मोजे

स्टीकिंग 588.8

### लंबोतरा [लंबोतरी]

लंब आयताकार 989.18 .

लंबाई युक्त 985.10

### लंबोवर

अत्याहारी 182.15

उन्नतोदर 158.29

गणेश 773.22

### लंबोच्छ

ऊँट 127.27

### लंबक

अध्याय 447.2

### लंबयुक्त क्रम

बृहत्कथा 450.12

### ल [संकेताक्षर]

लघु मात्रा 452.39

### लकड़ दादा

लकड़ दादा 722.9 ⇌

### लकड़ दादी

लकड़ दादी 722.10 ⇌

### लकड़ नाना

लकड़ नाना 722.34 ⇌

### लकड़ नानी

लकड़ नानी 722.35 ⇌

### लकड़ पोता

लकड़ पोता 722.18 ⇌

### लकड़ पोती

लकड़ पोती 722.19 ⇌

### लकड़बग्घा

लकड़बग्घा 127.78 ⇌

### लकड़ा

लकड़ा 597.10 ⇌

### लकड़ियाँ

घिता 254.12

### लकड़ी

काष्ठ 597.1

खटखटा 550.6

गतका 923.2

जलावन 110.4

जलावन लकड़ी 110.5

डोल डग्गा 461.96

लाठी 923.9

समिधा 753.29

### लकड़ी काटना

आरा चलाना 584.9

### लकड़ी: कुंदा

कुंदा 597.3

### लकड़ी: कोयला

लकड़ी: कोयला 110.7 ⇌

### लकड़ी: पूता

लकड़ी: पूता 588.16 ⇌

### लकड़ी लट्ठा

रक्ता नीका 1072.32

### लकड़बल

उज्ज्वल 218.37

घनकदार 287.36

### लकड़ब

उपाधि 858.1

### लकड़लकड़

क्षीणकाय 159.13

### लकड़ा

लकड़ा 264.12 ⇌

### लकड़ा (शे.)

पक्षाघात 284.11

### लकड़ी

अंकुसी 559.1

### लकड़ा

धील 126.41

### लकड़लकड़

उज्ज्वल 218.37

घनकदार 287.36

### लकड़ीर

आनुवंशिकता 727.17

क्यू 991.10

क्रम 991.1

टीप 599.26

तारतम्य 1049.3

दंदाना 970.11

परंपरा 795.1

प्रारब्ध लेख 280.6

यातायात लेन 1067.3

रेखा 988.6

लीक 1083.16

### लकड़ीर का क्रकरीर

अध्याय 345.8

कठमुल्ला 343.22

### लकड़ब

बड़हल 190.26

### लकड़

छड़ी 923.3

लाठी 923.9

### लकड़िया

छड़ी 923.3

### लकड़टी

छड़ी 923.3

### लकड़कड़

जलावन: लकड़ी 110.5

लकड़ा 597.10

### लकड़ा

गिद्ध 126.26



**लक्षण**  
लक्षण 770 49  
**लक्ष्मी**  
लक्ष्मी 626 7  
**लक्षक**  
महावर 225 32  
**लक्ष**  
चिह्न 407 1  
लक्ष्य 931 1  
लाख 948 75  
**लक्षण**  
अंग चिह्न 261 35  
अवलोकन 284 1  
आरंभिक लक्षण 317 6  
चरित्र 810.1  
प्रतीक 408.1  
प्रेक्षण 284 25  
लक्षण 317.5 ⇨  
शकुन 262 1  
**लक्षण गिनाना**  
लक्षण बताना 317.14  
**लक्षण धिकित्सा**  
ऐलोपेथी 172.3  
**लक्षणज्ञ**  
अंगविद्य 261 45  
**लक्षण निर्धारण**  
परिभाषण 317 2  
**लक्षण बताना**  
परिभाषा करना 317 12  
लक्षण बताना 317.14 ⇨  
**लक्षणयुक्त**  
लक्षणयुक्त 317 22 ⇨  
सौभाग्यशाली 260 33  
**लक्षणहीन**  
अपरिभाष्य 317 20  
निराकार 967 13  
**लक्षणा**  
लक्ष्य 931 1  
शब्द शक्ति सूची 426 3  
**लक्षणासीत**  
अपरिभाष्य 317 20  
**लक्षणासीतता**  
अपरिभाष्यता 317 4  
**लक्षणात्मक**  
लक्षणात्मक 426.30 ⇨  
**लक्षणार्थ**  
लक्षणार्थ 426 5 ⇨  
**लक्षणी**  
अंगविद्य 261 45  
लक्षणयुक्त 317.22  
**लक्षणीय**  
लक्षणीय 317.21 ⇨  
**लक्षणीय**  
लक्षणीय 28.66 ⇨  
**लक्षणीयः राजधानी**  
लक्षणीयः राजधानी 28 67 ⇨  
**लक्षणीय समूह**  
लक्षणीय 28 66

**लक्षपति**  
लक्षपती 626.7  
**लक्षित**  
अनुमानित 308 20  
चिह्नित 407 23  
परिभाषित 317 17  
लक्षणयुक्त 317 22  
**लक्षित करना**  
लक्षित करना 317 13 ⇨  
**लक्षितार्थ**  
लक्षणार्थ 426 5  
**लक्ष्म**  
चिह्न 407 1  
लक्षण 317 5  
**लक्ष्मण**  
दशरथ पुत्र सूची 770 35  
राम भाई सूची 770 5  
लक्ष्मण 770.49 ⇨  
सौभाग्यशाली 260 33  
**लक्ष्मण [लक्ष्मणा]**  
लक्षणयुक्त 317 22  
सुलक्षणयुक्त 317.27  
**लक्ष्मणः पत्नी**  
उर्मिला 770 19  
लक्ष्मणः पत्नी 770.50 ⇨  
**लक्ष्मणः पुत्र सूची**  
लक्ष्मण पुत्र सूची 770.51 ⇨  
**लक्ष्मण प्रसू**  
सुमित्रा 770 71  
**लक्ष्मणः माता**  
सुमित्रा 770 71  
**लक्ष्मण रेखा**  
पतिव्रत 805 4  
मर्यादा रेखा 808 6  
**लक्ष्मता**  
सुलक्षणता 317 9  
**लक्ष्मा [लक्ष्मी]**  
लक्षणयुक्त 317 22  
सुलक्षणयुक्त 317 27  
**लक्ष्मी**  
उन्नति 534 1  
गृह देवी 772.26  
तुलसी 13 9  
पत्नी 803 6  
पुत्री 718 10  
प्रभु सत्ता 899 2  
मोती 97.2  
लक्ष्मी 775 1 ⇨  
विष्णु पत्नी 788 6  
शोभा 226 1  
सफलता 512 1  
समृद्धि 626 1  
सिक्का 629 1  
सीता 770 66  
सौभाग्य 260 17  
स्वच्छता 218 1  
**लक्ष्मी (अवतार)**  
रुक्मिणी 771 84

**लक्ष्मी (दे.)**  
देवसेना 774 47  
**लक्ष्मी आगमन**  
पुत्री प्राप्ति 239.8  
**लक्ष्मीः आसन**  
लक्ष्मी आसन 775 4 ⇨  
**लक्ष्मीकांत**  
विष्णु 768 1  
**लक्ष्मी की कृपा होना**  
समृद्ध होना 626 10  
**लक्ष्मीगृह**  
रक्त कमल 14 6  
**लक्ष्मी दास**  
धन पूजक 628 25  
**लक्ष्मी देवी**  
लक्ष्मी 775 1  
**लक्ष्मीनाथ**  
विष्णु 768 1  
**लक्ष्मीः निवास**  
लक्ष्मी निवास 775 3 ⇨  
**लक्ष्मीपति**  
धनाढ्य 626 14  
धनाढ्य व्यक्ति 626 5  
**लक्ष्मीः पति**  
लक्ष्मीः पति 775 2 ⇨  
**लक्ष्मीपुत्र**  
कामदेव 773 12  
घोडा 127.35  
लव कुरा 770 54  
**लक्ष्मीपुष्प**  
कमल 14 4  
**लक्ष्मी पुष्प**  
लोग 281 30  
**लक्ष्मी पूजक**  
धन पूजक 628 25  
**लक्ष्मी प्राप्ति**  
धन प्राप्ति 628 2  
**लक्ष्मीः बड़ी बहन**  
दरिद्रा 775 6  
**लक्ष्मी बाई**  
वीर स्त्री उपमान 396 4  
**लक्ष्मी वल्लभ**  
विष्णु 768 1  
**लक्ष्मीवान**  
धनाढ्य 626 14  
**लक्ष्मी वाहन**  
उत्तू 126 14  
**लक्ष्मी वेष्ट**  
तारपीन 290.24  
रगव्य गोद 1012 9  
**लक्ष्मीश**  
आम कृष 13 5  
धनाढ्य व्यक्ति 626.5  
विष्णु 768 1  
**लक्ष्मी सहज**  
शुक ग्रह 7.9  
**लक्ष्मी सहोदर**  
चंद्रमा 8 2

**लक्ष्य**  
कारण 507 3  
गतव्य 1100 1  
गतव्य स्थान 1100.2  
लक्ष्य 931 1 ⇨  
लाख 948 75  
**लक्ष्य (दे.)**  
उत्प्रेष्य 508 2  
**लक्ष्य अभ्यास**  
लक्ष्य अभ्यास 931.8 ⇨  
**लक्ष्यकुराल**  
लक्ष्य साधक 931 20  
**लक्ष्य केंद्र**  
लक्ष्य केंद्र 931 7 ⇨  
**लक्ष्य केंद्रण**  
लक्ष्य सघान 931 9  
**लक्ष्यघन**  
लक्ष्य वेध कर्ता 931 21  
**लक्ष्य धरक**  
लक्ष्य धरक 931.6 ⇨  
**लक्ष्य चिह्न**  
लक्ष्य चक्र 931 6  
**लक्ष्य द्रुक**  
लक्ष्य द्रुक 931.12 ⇨  
**लक्ष्य द्युत**  
लक्ष्य द्युत 931.23 ⇨  
**लक्ष्य द्युत होना**  
लक्ष्य द्युत होना 931 19 ⇨  
**लक्ष्य द्युति**  
लक्ष्य द्रुक 931 12  
**लक्ष्यज्ञ**  
अंगविद्य 261 45  
**लक्ष्य ज्ञान**  
अंग विद्या 261 34  
**लक्ष्यता**  
कारणता 507 2  
**लक्ष्य पर**  
लक्ष्य पर 931.26 ⇨  
**लक्ष्य पर जाना**  
लक्ष्य पर जाना 931 18 ⇨  
**लक्ष्य पर लगना**  
लक्ष्य पर जाना 931 18  
**लक्ष्य प्राप्त होना**  
सफल होना 512 3  
**लक्ष्य बताना**  
निदेशन करना 347 9  
**लक्ष्य बिंदु**  
लक्ष्य केंद्र 931 7  
**लक्ष्य भ्रम**  
लक्ष्य भ्रम 931 13 ⇨  
**लक्ष्य भ्रमित**  
लक्ष्य भ्रमित 931 24 ⇨  
**लक्ष्य भ्रष्ट**  
लक्ष्य द्युत 931.23  
**लक्ष्य भ्रष्टता**  
लक्ष्य द्रुक 931 12  
**लक्ष्य भ्रष्ट होना**  
लक्ष्य द्युत होना 931.19

## ६. भात

लक्ष्य भात	लक्ष्य प्रति 931.24	लक्ष्य विमुख	लक्ष्य घ्युत 931.23	लक्ष्य वेध	लक्ष्य वेध 931.10 ⇌	लक्ष्य वेधक	लक्ष्य वेध कर्ता 931.21	लक्ष्य वेध कर्ता	लक्ष्य वेध कर्ता 931.21 ⇌	लक्ष्य वेधन	लक्ष्य वेध 931.10	लक्ष्य वेधना	लक्ष्य वेधना 931.17 ⇌	लक्ष्य वेध होना	लक्ष्य वेध होना 931.16 ⇌	लक्ष्य वेधी	लक्ष्य वेध कर्ता 931.21	लक्ष्यवेधी	लक्ष्यानुगामी 931.22	लक्ष्य संधान	विशा निर्धारण 29.23	धनुर्विद्या 907.29	लक्ष्य संधान 931.9 ⇌	लक्ष्य संधानक	लक्ष्य साधक 931.20	लक्ष्य संधान करना	लक्ष्य साधना 931.15	लक्ष्य संधानी	बंदूक: नक्खी 927.8	लक्ष्य संधानी 283.12 ⇌	लक्ष्य साधक	लक्ष्य साधक 931.20 ⇌	लक्ष्य साधन	लक्ष्य अभ्यास 931.8	लक्ष्य साधन 931.9	लक्ष्य साधना	लक्ष्य साधना 931.15 ⇌	लक्ष्य सिद्धि	सफलता 512.1	लक्ष्यहा	लक्ष्य वेध कर्ता 931.21	लक्ष्यहीन	दिशाहीन 1099.11	लक्ष्यहीन अनुमान	अटकल 947.3	लक्ष्यहीनता	दिशाहीनता 1099.3	लक्ष्यानुगमन	दिशानुगमन 1098.7	लक्ष्यानुगमन 931.11 ⇌	लक्ष्यानुगामी	लक्ष्यानुगामी 931.22 ⇌	लक्ष्यानुसार	अनुदिशत 1098.29	लक्ष्याभिमुख	लक्ष्यानुगामी 931.22	लक्ष्य	लक्ष्यस	लक्ष्यस 958.50 ⇌	लक्ष्य (ओं)	लक्ष्य 958.50	लक्ष्य-	लाख 948.75	लक्ष्यनक	उत्तर प्रदेश: राजधानी 28.18	लक्ष्यनी	आम सूची 190.10	लक्ष्यनवी शाम	अयध: सार्यकाल 47.16	लक्ष्यना	अभिज्ञान करना 356.16	देखना 284.30	लक्ष्यपती	लक्ष्यपती 628.7 ⇌	लक्ष्याई	अवलोकन 284.1	लक्ष्याना	आकलन करना 947.17	चिह्न करना 407.21	प्रदर्शित करना 285.36	लक्षित करना 317.13	सुझाव देना 332.11	लक्षिया	दीर्घायु 229.19	लक्ष्यीटा	सिद्धरदानी 225.35	लक्ष्योरिया ईट	लक्ष्योरिया ईट 599.32 ⇌	लक्ष्यीरी ईट	लक्ष्योरिया ईट 599.32	लक्ष्ये जिगर	प्रिय पुत्र 718.7	लग	अदाज़न 947.28	कब तक 39.13	सादृश्य: उक्ति सूची 309.26	लगाज़िहा	डगमगाहट 1084.11	भूल 498.3	लगदी	छोटा बिछौना 593.48	लगन	अध्यवसाय 489.4	अभिरुचि 400.2	अभिरुक्ति 365.1	उन्माद 354.4	जन्म लगन 261.11	तल्लीनता 331.6	तसला 685.9	प्रेम 368.1	लगन 493.4 ⇌	लगन लिखाई 800.36	लगन पत्रिका 799.39	विवाह 799.1	विवाह मुहूर्त 799.37	साया 799.35	लगन का पक्का	अविचल 500.15	लगन लगना	लगन होना 493.8	लगन लिखाई	लगन लिखाई 800.36 ⇌	लगनशील	अविचल 500.15	लगनशील 493.11 ⇌	लगन होना	लगन होना 493.8 ⇌	विवाह होना 799.42	लगना	अनुभूति होना 283.7	आरोप लगना 875.21	उत्पन्न होना 548.8	उपभुक्त होना 524.9	उष्ण लगना 104.15	एकत्रित होना 687.6	कटाक्ष लगना 844.8	क्रमबद्ध होना 991.18	खपना 644.16	गंतव्य प्राप्त होना 1100.5	धिपकना 1012.11	धुभना 270.11	टकराना 1051.31	तकरार करना 708.11	धंसना 1031.19	निकट आना 1093.9	परिश्रम करना 493.6	पार लगना 1080.38	पीछा करना 1096.7	पीका होना 392.18	पूयित होना 169.12	प्रवृत्त होना 502.5	प्रहार न बचना 919.6	भोग लिप्सा होना 363.10	मिलना 389.5	मूल बनना 117.13	मूल्य निर्धारित होना 664.20	रिश्ता होना 715.9	लक्ष्य वेध होना 931.16	लागत आना 644.17	लिपना 292.10	विनियोज्य होना 438.4	ध्यय होना 644.12	संयुक्त होना 1010.17	सलग्न होना 1010.13	सटना 31.6	समागम होना 694.25	समाप्त होना 942.12	समाविष्ट होना 1002.12	सही आकार होना 961.15	सादृश्य आभास होना 309.12	लगनी	पाम रकाबी 685.7	लगने वाला	सलग्न होने वाला 1010.19	लगभग	अदाज़न 947.28	लगभग गोल	वर्तुलप्राय: 976.18	लगहर	गालत तराजू 962.11	सका [सकी] 197.48	लगा [लगी]	खपा [खपी] 644.25	टँका [टँकी] 577.30	दौब पर लगा 481.25	नत्थीकृत 417.15	निवेशित (पूजी) 628.29	प्रवृत्त 502.10	फिटिड 1016.44	लक्ष्यानुगामी 931.22	शर्त पर लगा 339.34	सलग्न 1010.18	सटा [सटी] 31.8	लगाई	गड़ाई 1016.4	फिटिंग 1016.2	विजड़न 1016.1	सलग्नन 1010.1	लगाई बुझाई	धुगालखोरी 843.11	लगातार	अनवरत (वर्षा) 54.24	अविराम 1049.10	अविरामत 1049.16	टकटकी से 284.56	ताकते हुए 284.57	तारसम्यपूर्वक 1049.22	नियमितत 71.23	प्रति क्षण 1049.19	बिना थके 493.17	लगातार देखना	ताकना 284.41	लगान	नौका घाट 1069.12	लगान 647.25 ⇌	संयुति स्थल 1010.11	लगान दाता	लगान दाता 647.26 ⇌	लगानदार	लगानदार 553.3 ⇌	लगानदारी	लगानदारी 553.2 ⇌	लगानमुक्त कृषि	लगानमुक्त कृषि 553.4 ⇌	लगानमुक्त कृषि धारी	लगानमुक्त कृषि धारी 553.5 ⇌	लगान बसूल कर्ता	लगान बसूल कर्ता 647.37 ⇌	लगा न होना	प्रवृत्त न होना 503.7
------------	---------------------	--------------	---------------------	------------	---------------------	-------------	-------------------------	------------------	---------------------------	-------------	-------------------	--------------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------	-------------------------	------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------------	--------------------	-------------------	---------------------	---------------	--------------------	------------------------	-------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------	-----------------------	---------------	-------------	----------	-------------------------	-----------	-----------------	------------------	------------	-------------	------------------	--------------	------------------	-----------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------	--------------	----------------------	--------	---------	------------------	-------------	---------------	---------	------------	----------	-----------------------------	----------	----------------	---------------	---------------------	----------	----------------------	--------------	-----------	-------------------	----------	--------------	-----------	------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	---------	-----------------	-----------	-------------------	----------------	-------------------------	--------------	-----------------------	--------------	-------------------	----	---------------	-------------	----------------------------	----------	-----------------	-----------	------	--------------------	-----	----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------	----------------	------------	-------------	-------------	------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------	--------------	--------------	----------	----------------	-----------	--------------------	--------	--------------	-----------------	----------	------------------	-------------------	------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------------	----------------	--------------	----------------	-------------------	---------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------------	-------------	-----------------	-----------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------	-----------	-------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	------	-----------------	-----------	-------------------------	------	---------------	----------	---------------------	------	-------------------	------------------	-----------	------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	---------------	----------------------	--------------------	---------------	----------------	------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------------	--------	---------------------	----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-----------------	--------------	--------------	------	------------------	---------------	---------------------	-----------	--------------------	---------	-----------------	----------	------------------	----------------	------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------	------------	-----------------------

**लगाना**

उत्पादन करना 546.7  
 गड़ाना 1016.38  
 धिपकाना 1012.12  
 टीकना 577.26  
 दौब पर लगाना 481.24  
 दौब लगाना 481.23  
 नियुक्त करना 653.24  
 पूंजी निवेश करना 628.22  
 फ्रिट करना 1016.37  
 बुआई करना 548.35  
 मैदना 592.12  
 मिलाना 389.6  
 मूल्य निवेदन करना 664.21  
 रोपित करना 548.36  
 लक्ष्य वेधना 931.17  
 लीपना 292.11  
 विजयित करना 1016.36  
 संलग्न करना 1010.14  
 समाविष्ट करना 1002.13  
 सिलार्ड करना 577.23  
**लगाना बुझाना**  
 कलह करवाना 708.10  
 युगली करना 843.19  
**लगाने वाला**  
 प्रवृत्त कर्ता 502.11  
 विपन्न कर्ता 1016.43  
 संलग्न कर्ता 1010.20  
**लगापन**  
 संलग्नता 1010.2  
 सटापन 31.2  
**लगा भगा [लगी भगी]**  
 अपाहृत 862.9  
**लगाभगी**  
 जल्दबाजी 496.4  
 हड़बड़ी 496.5  
**लगाम**  
 नियंत्रण. उपमान सूची 899.27  
 लगाम 555.17 ⇨  
 शासन सूत्र 890.4  
**लगाम कसना**  
 पशु वेग कम करना 1043.15  
**लगाम खींचना**  
 नियंत्रित करना 899.20  
 पशु वेग कम करना 1043.15  
**लगाम पकड़ाई**  
 बाग पकड़ाई 800.29  
**लगाम हथ में होना**  
 वशाधीन करना 901.6  
**लगामा [लगाई]**  
 रोपित 548.52  
**लगा रहने वाला**  
 अध्यक्षीय 489.10  
**लगासगी**  
 घनिष्ठता 704.13  
 प्रतिद्वंद्विता 707.1  
**लगाव**  
 सटापन 31.2

**लगावट**

संबंध 715.1  
 स्वजन भावना 725.2  
**लगावन**  
 स्निग्ध 196.1  
**लगा होना**  
 व्यस्त होना 502.8  
**लगी**  
 अंदाज़न 947.28  
 कब तक 39.13  
 संबंधतः 715.14  
 सादृश्यः उक्ति सूची 309.26  
**लगी**  
 आसक्ति 365.1  
 क्षुधा 180.1  
 प्रेम 368.1  
 प्रेमासक्ति 368.8  
 लगन 493.4  
 लालसा 359.5  
**लगुआ**  
 अनुचर 696.16  
 पिछलगु 1096.13  
**लगुड**  
 छड़ी 923.3  
 डंडा 923.5  
 धातु मैड़ी लाठी 923.10  
 लाठी 923.9  
**लगुन**  
 निम्न तट सूची 25.24  
**लगुन (अ)**  
 तटवर्ती प्रवाहहीन जल 21.13  
**लगे**  
 संलग्नतः 1010.26  
**लगेज (अ)**  
 असबाब 1087.31  
 सामान 1081.6  
**लगेज रूम**  
 लगेज रूम 1069.7 ⇨  
**लगेज रूम (अ)**  
 लगेज रूम 1069.7  
**लगेज वेन (अ)**  
 माल डिब्बा 1076.11  
**लगे रहना**  
 अध्यक्षीय करना 489.7  
 दीर्घ काल तक रहना 37.6  
**लगे लगे**  
 संलग्नतः 1010.26  
**लगे हथ**  
 शीघ्रतः 496.13  
**लगे**  
 बकवास 428.7  
**लगा**  
 एक धाँव 484.2  
 डोंड 1073.5  
 लग्गा 563.6 ⇨  
**लगगी**  
 डोंड 1073.5  
 लग्गा 563.6

**लगु**

अनुचर 696.16  
 पिछलगु 1096.13  
 संलग्न होने वाला 1010.19  
 सहयात्री 1088.2  
**लगुड**  
 बाज़ गिद्ध 126.29  
**लगुधा**  
 डोंड 1073.5  
**लगुन**  
 जन्म लगन 261.11  
 टैका [टैकी] 577.30  
 तल्लीन 331.14  
 मुहूर्त 49.10  
 राशि 4.7  
 लगन लिखाई 800.38  
 लग्न 49.11 ⇨  
 लग्न पत्रिका 799.39  
 विवाह 799.1  
 विवाह मुहूर्त 799.37  
 संलग्न 1010.18  
 साया 799.35  
**लग्न कंकण**  
 कैंगना 802.11  
**लग्नक**  
 अनुलग्नक 1010.4  
 पत्र अनुलग्नक 444.4  
**लग्न कुंडली**  
 जन्म कुंडली 261.7  
**लग्नतः**  
 संलग्नतः 1010.26  
**लग्नता**  
 गुट सापेक्षता 885.11  
 संलग्नता 1010.2  
 सहितता 1006.1  
**लग्न दिन**  
 मंगल दिवस 796.4  
 विवाह दिवस 799.34  
**लग्नन**  
 नत्थीकरण 417.13  
 संलग्नन 1010.1  
 पत्र  
 लग्न पत्रिका 799.39  
 विवाह निमंत्रण पत्र 1056.3  
**लग्न पत्रिका**  
 लग्न पत्रिका 799.39 ⇨  
 विवाह निमंत्रण पत्र 1056.3  
**लग्न पत्रिका लेखन**  
 लग्न लिखाई 800.38  
**लग्न लेखन**  
 लग्न लिखाई 800.38  
**लग्न स्थान**  
 जन्म कुंडली: स्थान 261.8  
**लग्नः स्वामी ग्रह**  
 लग्नाधिपति 261.19  
**लग्नाधार्य**  
 ज्योतिषी 261.2

**लग्नाधिप**

लग्नाधिपति 261.19  
**लग्नाधिपति**  
 लग्नाधिपति 261.19 ⇨  
**लग्नाह**  
 मंगल दिवस 796.4  
 विवाह दिवस 799.34  
**लग्नेश**  
 लग्नाधिपति 261.19  
**लघिना**  
 लघुता 980.1  
 सिद्धि देवी सूची 774.101  
 हलकापन 963.5  
**लघु**  
 अप्रधान 853.9  
 अल्प 942.13  
 अल्पोच्च 982.9  
 ताल मात्रा: प्रकार सूची 458.35  
 लघु 980.20 ⇨  
 सूक्ष्म 980.21  
 ह्रस्व मात्रा युक्त 410.24  
**लघु उद्योग**  
 लघु उद्योग 557.7 ⇨  
**लघुक**  
 हलका [हलकी] 963.14  
**लघु कथा**  
 लघु कथा 450.11 ⇨  
**लघुकरण**  
 लघुकरण 980.4 ⇨  
**लघु करना**  
 कम करना 980.13  
**लघुकाय**  
 ठिगना 154.18  
 लघुकाय 154.28 ⇨  
**लघुकायता**  
 लघुकायता 154.9 ⇨  
**लघुकृत**  
 लघुकृत 980.23 ⇨  
**लघु क्रम**  
 हुत गति 458.8  
**लघु चित्र**  
 मिनिचर 404.8  
 लघु चित्र 472.4 ⇨  
**लघुजन समष्टि**  
 लघुजन समष्टि 722.2 ⇨  
**लघु जीविता**  
 अल्पायुता 229.5  
**लघु जीवी**  
 अल्पायु 229.18  
**लघुतम**  
 अल्पतम 942.15  
**लघु तरंग**  
 शोर्ट वेव 1040.12  
**लघुता**  
 लघुकायता 154.9  
 लघुता 980.1 ⇨  
 संकीर्णता 980.11

लघु ताल

लघु ताल

लघु ताल 458 49 ⇨

लघु नगर

कराबा 620 6

लघु नगर वासी

लघु नगर वासी 616 26 ⇨

लघु नगरीय

कराबाई 620 21

लघु फलक

मिनिघर 404 8

लघु फ़िल्म

लघु चित्र 472 4

लघु भूकप

भूरयदन 9 16

लघुमना

अधम 840.4

राकीण्हदय 818 10

लघु मात्रा

लघु मात्रा 452 39 ⇨

ह्रस्व मात्रा 410 19

लघु मार्ग

सक्षिप्त मार्ग 1063 4

लघु शंख

घोषा 124 16

लघु शरीर

सूक्ष्म शरीर 139 2

लघ्याकार

लघु 980 20

लघ्याकारता

लघुता 980 1

लघ्यीकरण

प्रभाव मदन 511 5

लघ्यीकृत

मदित (प्रभाव) 511 20

लघक

लघक 1050 14 ⇨

लघक मटक 1084 20

लघकदार

लघकदार 1050 34 ⇨

लघकन

लघक मटक 1084 20

लघकना

लघकना 1050 27 ⇨

लघकना मटकना 1084 41

लघकना मटकना

लघकना मटकना 1084 41 ⇨

लघक मटक

लघक मटक 1084.20 ⇨

लघका

कीध 287 20

घनका 392 11

लघकीला [लघकीली]

लघकदार 1050 34

लघकीही [लघकीही]

लघकदार 1050 34

लघदार

लघकदार 1050 34

लघन

लघक 1050 14

लघना

लघकना 1050 27

लघर

अदूक 159 16

तथ्यहीन 821 22

तर्कहीन 325 22

निराधार 1019 16

लघर तर्क

कुतर्क 325 3

लघलथा [लघलथी]

लघकदार 1050 34

लघलथाना

लघकना 1050 27

लथीला [लथीली]

लघकदार 1050 34

लघ्न

घरित्र 810 1

शकुन 262 1

लघ्ना

केश घुँघर 137 6

लघ्ना 575.6 ⇨

लघ्नाः पकीही

कोफता 200 16

लघ्नी

लघ्नी 575 7 ⇨

लघ्नेदार

घुँघराला 137 25

शब्दाडबरपूर्ण 421 35

लघ्नेदार बाल

घुँघराले केश 137 13

लघ्नेदार भाषा

अलकृत भाषा 421 21

लघ्नमन

लक्ष्मण 770 49

लजाऊ

लज्जारील 845 11

लजाना

लज्जा प्रदर्शन करना 845 7

लज्जित होना 845 6

लजालु

लज्जारील 845 11

लजियाना

लज्जित करना 845 8

लज्जीज़

स्वादिष्ठ 275 20

लजीला [लजीली]

लज्जारील 845 11

लजीलापन

लज्जारीलता 845 2

लज्जत

आहार सुवास 281 1

स्वाद 275 1

लज्जतदार

स्वादिष्ठ 275 20

लज्जत पसंदी

स्वाद लोत्पता 275 9

लज्जा

परदानशीनी 591 1

लज्जा 845 1 ⇨

ही 775 7

लज्जाकर

लज्जाजनक 845 12

लज्जा गोपन

लज्जा गोपन 845 3 ⇨

लज्जाजनक

अरलील 734 19

लज्जाजनक 845.12 ⇨

लज्जा त्यागना

लज्जा त्यागना 846 5 ⇨

लज्जापूर्वक

लज्जावश 845 15

लज्जाप्रद

लज्जाजनक 845.12

लज्जा प्रदर्शन करना

लज्जा प्रदर्शन करना 845.7 ⇨

लज्जावश

लज्जावश 845 15 ⇨

लज्जावान [लज्जावती]

लज्जारील 845 11

लज्जारील

झेंपू 845 13

लज्जारील 845.11 ⇨

लज्जारीलता

लज्जारीलता 845 2 ⇨

लज्जास्पद विषय

वर्जित दृश्य सूची 463.28

लज्जाहीन

लज्जाहीन 846 8 ⇨

लज्जाहीनता

अरलीलता 734 7

लज्जाहीनता 846 1 ⇨

लज्जाहीन होना

लज्जाहीन होना 846 4 ⇨

लज्जित

लज्जित 845 10 ⇨

लज्जित करना

लज्जित करना 845.8 ⇨

लज्जित न होना

लाज न आना 846 3

लज्जित होना

लज्जित होना 845 6 ⇨

लट

अलबेट 975 10

घुँघराले केश 137 13

लघ्नी 575 7

लट 223 15 ⇨

लटई

लटई 575.9 ⇨

लटक

प्रलबन 1024 1

प्रालब 1024 3

लघक मटकः 1084 20

लटकता [लटकती]

डीला [परिधान] 583 26

प्रलंबित 1024 10

लटकती वस्तु

प्रालब 1024 3

लटकन

परदा 605.6

पैडुलम 50.28

पैडेट 228 50

प्रलबक 1024 12

प्रलंबन 1024 1

प्रालंब 1024.3

लघक मटक 1084.20

लटकना

झूलना 1034.19

डगमगाना 1084 35

प्रलंबित होना 1024.8

विलंब होना 495.6

लटकना [लटकनी]

प्रलंबक 1024 12

लटकनी बैला

झोला 673 16

लटकनी बैलगाड़ी

मोनोरेल 1071 69

लटका

उपाय 517.3

कार्य विधि 514.1

कूट युक्ति 819.8

टोना टोटका 759.1

युक्ति 517 1

शोबदा 473 26

लटका [लटकी]

प्रलंबित 1024.10

लटका खटका

दोषपेघ 819.11

लटकाना

फाँसी चढ़ाना 871 19

लटकापन

प्रलंबितता 1024.2

लटकू

प्रलंबक 1024 12

लटकीआ [लटकीई]

प्रलंबक 1024.12

लटकीबा [लटकीई]

प्रलंबक 1024 12

लटना

काया शिथिल होना 159 8

कुलबुलाना 392 17

लटपट

डगमगाते 1084 53

लटपटा [लटपटी]

अर्थ प्रगाढ़ 80 9

क्रमहीन 992.5

शिथिल 1045 13

शिथिलकाय 159 15

लटपटाता [लटपटाती]

डगमगाता [डगमगाती] 1084.46

लटपटान  
डगमगाहट 1084.11  
लटपटाना  
डगमगाना 1084 35  
थकना 492.10  
लक्ष्य ध्युत होना 931 19  
लटा  
लफंगा 811 8  
लटा [लटी]  
क्षीणकाय 159 13  
लटापटी  
सम्भ्रमण 1008 12  
लटापोट  
लुङका [लुङकी] 1031 29  
लोटपोट 384 6  
सम्मोहित 367.6  
लटालह  
अति आनंदित 382.20  
लटिया  
लटई 575 9  
लटी  
गप 440 7  
लफंगी 811 9  
साधु स्त्री 790 17  
लटुआ  
लटू 480 15  
लटुरा  
कुप्पा 678 7  
लटूबक  
लहटोरा 126 70  
लटू  
अति आनंदित 382 20  
कास्टर पहिया 1077.3  
तबू शिखर 600 26  
बल्ब 285 23  
लटू 480 15 ⇨  
लोटपोट होता 384 18  
सम्मोहित 367 6  
लटू: कीली  
लटू कीली 480.16 ⇨  
लटू पहिया  
कास्टर पहिया 1077.3  
लटू होना  
सम्मोहित होना 367 4  
लटूबंद  
लाठीधारी 930 17  
लटूबाज़  
लाठीधारी 930 17  
लटूबाज़ी  
लटूठम लटूठा 905 24  
लटूठम लटूठा  
लटूठम लटूठा 905.24 ⇨  
लटूठमार  
धृष्टतापूर्ण 734 21  
लटूठमार बोली  
कटु वचन 432.3  
लटूठा  
लटूठा 580 38 ⇨

राहतीर 611.22  
हल लटूठा 583.13  
लठ  
लाठी 923.9  
लठिया  
लाठी 923.9  
लठैत  
लाठीधारी 930.17  
लठैती  
लटूठम लटूठा 905 24  
लठंत  
आमना सामना 915 3  
मुठभेड़ 915.2  
युद्ध 905.4  
लठ  
लठ्ठी 228 38  
लठकपन  
बाल अवस्था 230 21  
लठका  
पुत्र 718 3  
बालक 230 23  
लठका 230 25 ⇨  
लठका  
वर 801 10  
लठका लठकी  
वर वधू 801.9  
संतान 718 1  
लठकी  
नवयुवती 231 3  
पुत्री 718 10  
लठकी 230.26 ⇨  
वधू 801.11  
लठकी देखना  
वधू घयन करना 799 50  
लठकी पसंद करना  
वधू घयन करना 799 50  
लठकी बाला  
वधू पिता 801.3  
लठकी बाले  
वधू पक्ष 801.2  
लठके बाले  
बीती बच्चे 726 11  
लघुजन समष्टि 722 2  
संतान 718 1  
सतान समष्टि 718 2  
लठके बाला  
वर पिता 801 5  
लठके बाले  
बराती 801 7  
वर पक्ष 801 4  
लठखक  
डगमगाते 1084 53  
विघलनशील 501 12  
लठखकाक  
विघलनशील 501 12  
लठखकाता [लठखकाती]  
डगमगता [डगमगाती] 1084 46  
मदोन्मत्त 211 15

लठखकाना  
डगमगाना 1084.35  
भय कंपित होना 395 14  
लठखकाना  
विघलित होना 501 7  
लठखकाहट  
टिमटिमाहट 287.25  
डगमगाहट 1084 11  
मद झूम 211 2  
लठखकी  
डगमगाहट 1084 11  
लठता [लठती]  
मुठभेड़ ग्रस्त 915 12  
लठते रहना  
प्रतिरोध करना 915 4  
सघर्ष करना 905.29  
लठना  
कलह करना 708 9  
कुश्ती लठना 486 22  
टकराना 1051 31  
तकरार करना 708.11  
निर्वाचन लठना 888 29  
प्रतिद्विदिता करना 707 5  
प्रहार करना 918 21  
मुठभेड़ करना 915 8  
युद्ध करना 905 31  
वाद विवाद करना 324 19  
लठबका  
नपुंसक 238 18  
लठबका [लठबकी]  
अर्थ प्रगाढ़ 80.9  
लठबाबला [लठबाबली]  
अत्यधिक लाका 721.16  
लठबाबलापन  
अत्यधिक लाकापन 721.5  
लठबीरा [लठबीरी]  
अत्यधिक लाका 721 16  
लठबीरापन  
अत्यधिक लाकापन 721 5  
लठ मरना  
युद्ध में मरना 249.20  
लठइ  
कलह 708 1  
कुश्ती 486 7  
मुठभेड़ 915.2  
युद्ध 905 4  
लठआई छिड़ना  
युद्ध होना 905.30  
लठआई जमना  
युद्ध होना 905 30  
लठआई झगका  
उपद्रव 903 1  
कलह 708 1  
हिंसा प्रतिहिंसा 251 14  
लठआई ठनना  
युद्ध होना 905.30  
लठआई होना  
युद्ध होना 905 30

लठकाका  
पहलवान 486 2  
युद्ध प्रेमी 907 42  
योद्धा 934.15  
लठकाका [लठकाकी]  
कलहप्रिय 708.13  
लठकाकापन  
युद्ध प्रेम 907 4  
लठकाकू  
कलहप्रिय 708.13  
गुटबाज़ 885 39  
युद्ध प्रेमी 907 42  
योद्धा 934.15  
लठकाकू जहाज़  
नौसेना पोत 1072 43  
लठकी  
अनवरत वर्षा 54 7  
आतिशबाज़ी सूची 56.6  
तारतम्य 1049.3  
तीव्र वर्षा 54.11  
प्रधार 1032 8  
मंजरी 115 10  
लठकी 228 38 ⇨  
सेहरा 802.26  
लठुआ  
लठु 203 39  
लठैत  
योद्धा 934 15  
लठैता  
योद्धा 934 15  
लठैता [लठैती]  
लाका [लाकी] 721.15  
लठू  
लठु 203 39 ⇨  
लठवाना  
लाक करना 721 9  
लठवा  
बैलगाकी 1071 42  
लठिया  
बैलगाकी 1071 42  
लठ  
कुय्यसन 812 7  
लठ-  
पद प्रहार 918 19  
लठझोर  
पद प्रहारित 918 38  
लठझोरी  
चौखट अधोकाष्ठ 609 3  
लठतर  
लता 111 17  
लता  
धुमावदार रेखा 968 14  
लता 111.17 ⇨  
लीक 1063 16  
लता कुज  
लता कुज 12.19 ⇨  
लतागृह  
लता कुज 12 19

## लताइ

### लताक

डोट 373.11

### लताकना

पवचलित करना 911.9

पद प्रहार करना 918.29

### लता पता

पत्रीपथ 176.5

शस्य 111.8

### लताकृत

उरकुटता प्रेम 400.6

कोमलंगता 159.1

सुखि 400.5

### लता भवन

लता कुंज 12.19

### लता मंडप

लता कुंज 12.19

लता मंडप 600.12 ⇐

### लता मंडप (वे.)

लता मंडप 600.12

### लता मणि

मूना 97.1

### लता मृग

बंदर 127.86

### लता बंध

साल 13.26

### लतिका

लता 111.17

### लतिचल

पद प्रहारित 918.38

### लतिधाना

ठोकर लगाना 1084.34

निकाल भगाना 1092.14

पद प्रहार करना 918.29

### लतिहर

पद प्रहारित 918.38

### लती

कुव्यसनी 812.16

मदासक्त 211.14

### लतीक

उत्तम 313.13

कलापूर्ण 402.3

रोचक 400.12

### लतीक्री

घुटकुला 450.26

### लतीक्रीगोई

घुटकुलेबाजी 385.5

### लतीक्रीसर्प

घुटकुलेबाजी 385.5

### लतार

कत्तर 938.6

जीर्ण परिधान 583.4

घज्जी 938.25

### लता

धीथड़ा 938.16

घज्जी 938.25

वस्त्र 579.1

वस्त्र-कटपीस 579.23

### रती

घज्जी 938.25

पद प्रहार 918.19

### रत्न

जीर्ण परिधान 583.4

### रत्नपथ

आर्द्र 88.27

शिथिल 1045.13

### रत्नाक

दलदल कर्षण 1051.10

पराजय 913.1

### रत्नाकना

डोटना 373.25

पटकनी खिलाना 486.24

पवचलित करना 911.9

पद प्रहार करना 918.29

लज्जित करना 845.8

लोधारना 1051.24

### रत्नेक

उथला जल: नौका कर्षण 1080.5

दलदल कर्षण 1051.10

### रत्नेकना

अपमानित करना 855.6

पटकनी खिलाना 486.24

पवचलित करना 911.9

पद प्रहार करना 918.29

लोधारना 1051.24

### रत्नना

अतीत होना 63.5

काल क्षेप होना 36.15

पल्लव निकलना 117.15

पुष्पित होना 118.8

### रत्नाना

भेजना 1054.10

लवा [लबी]

पुष्पयुक्त 115.17

पुष्पित 118.14

प्रेषित 1054.14

फलयुक्त 116.11

फलित 118.16

लवा [लबी] 1061.24 ⇐

लवा [लबी] (बावल)

आर्द्र 88.27

लवाई

लवाई 1061.13 ⇐

लवाई करना

लादना 1061.17

लवाक

लवाक 1061.25 ⇐

लवान

प्रेषण 1054.1

भार वहन 1061.2

लवाई 1061.13

लदान करना

भेजना 1054.10

लदान पत्र

जावक पत्र 1054.7

### लवापन

भारप्रस्ताता 963.6

लवा कैदा [लबी कैदी]

अतिभारप्रस्त 963.15

अलंकृत 227.4

लवा माल

प्रेषित सामान 666.4

लवाब

प्रेषण 1054.1

लवुआ

भार वाहक 1061.22

लवाक 1061.25

लबीनी

माल भार 1061.7

लवाई 1061.13

लाव 1061.5

लवाख

लवाख 28.33 ⇐

लवाख पर्यंत माला

भारत उपमहाद्वीप: पर्यंत सूची 17.1

लवू

भार वाहक 1061.22

लवाक 1061.25

लवू गाड़ी

भार धान 1071.2

लवू जहाज

माल पोत 1072.35

लवू जानवर

भार पशु 127.5

लवू बैल

भार वाहक बैल 127.15

लवाक

आलसी 490.14

लवाकपन

आलस्य 490.5

लवूमि

छोटी लहर 1040.20

लप

लचक 1050.14

लपक

उचक 1030.7

कैच 475.27

झपट्टा 914.10

लहक 1084.21

स्फूर्ति 491.2

लपकना

उचकना 1030.16

झपट्टा मारना 914.15

दुत गमन करना 1044.5

लहकना 1084.42

लपकी

कैच 475.27

लपकू

अधिग्रहणशील 635.18

उचकने वाला 1030.28

लपकूपन

अधिग्रहणशीलता 635.2

लपककना [लपककनी]

अधिग्रहणशील 635.18

उठाईगीर 864.11

लोपी 359.31

लपकूपन

स्फूर्त 491.13

हाथ की सफाई 473.28

लपट

अग्नि ज्वाल 106.8

लपटता [लपटती]

उदीप्त (अग्नि) 107.14

लपटन

अग्नि वर्धन 107.3

लपटना

संलग्न होना 1010.13

लपटा

कड़ी 201.15

लपसी 203.40

लेई 1012.5

लपटा [लपटी]

अर्थ प्रगाढ़ 80.9

लपटीऔं

अर्थ प्रगाढ़ 80.9

लपटीना [लपटीनी]

अर्थ प्रगाढ़ 80.9

लपना

झपट्टा मारना 914.15

दबकना 989.7

लचकना 1050.27

लपलप

कीच 287.20

लपलप 207.7 ⇐

लपलप करना

लचकना 1050.27

लपलपा [लपलपी]

लचकदार 1050.34

लपलपाना

कीचना 287.28

लचकना 1050.27

लपलपाहट

लचक 1050.14

लपसी

फिरनी 203.24

लपसी 203.40 ⇐

लेई 1012.5

लपालप

लपलप 207.7

लपुलपा

घज्जी 938.25

फुचका 569.3

लपेट

आलेप 292.1

चिनार्ड: फेट 599.25

पगड़ी. लपेट 584.25

फेट 586.30

लपेट 575.1 ⇐

वेष्टन 592.5

सिकुकरन 980.10

लपेटवार  
 चक्रिल 973.10  
 लपेटन  
 नरोरुन 975.12  
 लपेटना 575.2 ⇌  
 लपेटना  
 तह करना 975.24  
 पहनना 589.22  
 लपेटना 575.11 ⇌  
 लीपना 292.11  
 वेष्टित करना 592.11  
 संकुचित करना 980.16  
 सिकोड़ना 980.18  
 लपेटबी  
 अर्थ प्रगाढ़ 80.9  
 चक्रिल 973.10  
 लपेटा  
 आलेप 292.1  
 प्रहार सीमा 918.2  
 फेंक 588.30  
 लपेटा [लपेटा] 575.12  
 लिपटा [लिपटी] 575.12  
 वेष्टित 592.17  
 सिकुड़ा [सिकुड़ी] 980.28  
 लप्पड़  
 तमाचा 918.16  
 लम्बिका  
 लपसी 203.40  
 लफंगा  
 लफंगा 811.8 ⇌  
 लफंगापन  
 लफंगापन 811.3 ⇌  
 लफंगी  
 लफंगी 811.9 ⇌  
 लफका  
 उपद्रव 903.1  
 लफज़  
 आज्ञा 347.1  
 उक्ति 434.1  
 वाचा 299.1  
 शब्द 423.1  
 लफज़ी  
 अभिघातक 426.29  
 शब्दीय 423.12  
 लफफ़  
 तमाचा 918.16  
 लफफ़ाजी  
 बातूनीपन 435.7  
 शब्दाडंबर 421.28  
 शब्दाडंबरपूर्ण तर्क 325.8  
 लफफ़ाजीवार  
 शब्दाडंबरपूर्ण 421.35  
 लब  
 ओष्ठ 143.2  
 लबकना  
 असत्य कहना 821.14  
 लबका [लबकी]  
 गप्पी 440.9

लबबी  
 डंडी 923.7  
 लबरा [लबरी]  
 गप्पी 440.9  
 वाम पार्श्वीय 997.22  
 लबरज़  
 ऊपर तक 1004.17  
 छलकता [छलकती] 1032.29  
 लब सी लैना  
 मीन होना 429.14  
 लबाक  
 गप्पी 440.9  
 लबाकिया  
 गप्पी 440.9  
 लबावा  
 लबावा 585.19 ⇌  
 लबाव  
 असत्यवादी 821.17  
 गप्पी 440.9  
 लबारिया  
 असत्यवादी 821.17  
 गपशप कर्ता 435.27  
 गप्पी 440.9  
 लबारी  
 असत्य कथन 821.5  
 असत्यवादी 821.17  
 गपशप 435.8  
 लबालब  
 ऊपर तक 1004.17  
 ऊपर तक भरा 1004.13  
 छलकता [छलकती] 1032.29  
 लबालब करना  
 ऊपर तक भरना 1004.9  
 लबेधा  
 डंडा 923.5  
 लब्ध  
 उपलब्ध 943.9  
 प्रतिलब्ध 863.8  
 प्राप्त 837.8  
 सुलभ 943.10  
 लब्धकाम  
 पूर्णच्छ 361.13  
 सफल 512.6  
 लब्धघेता  
 लब्धघेता 263.13 ⇌  
 लब्धता  
 उपलब्धता 943.1  
 सुलभता 943.2  
 लब्धन  
 आदान 837.1  
 लब्धप्रतिच्छ  
 ख्यात 847.3  
 लब्ध फल  
 भाग फल 955.14  
 लब्धलब्ध  
 सफल 512.6  
 लब्धविध  
 विद्वान 319.8

लब्धसंज्ञ  
 लब्धघेता 263.13  
 लब्ध होना  
 उपलब्ध होना 943.5  
 लब्धार्क  
 भाग फल 955.14  
 लब्धा  
 अनुभूति कर्ता 263.11  
 खोजी 336.25  
 प्राप्ता 837.9  
 लब्धि  
 आय 843.1  
 उपपत्ति 328.1  
 उपलब्धता 943.1  
 परिणाम प्राप्ति 510.2  
 प्राप्ति 837.2  
 बोध प्राप्ति 301.11  
 भाग फल 955.14  
 लब्धिहीन  
 प्रतिफलहीन 510.14  
 लब्धिहीनता  
 प्रतिफलहीनता 510.5  
 लब्धन  
 आदान 837.1  
 लब्ध  
 उपलब्ध 943.9  
 लब्धता  
 उपलब्धता 943.1  
 लब्-  
 लंबाई युक्त 965.10  
 लम्बच्छक  
 भाला 925.4  
 लंबा पतला 154.16  
 लम्बुआ  
 लंब आयताकार 969.16  
 लम्बतर्कंग  
 लंबा तगका 154.15  
 लम्बतर्कंगा [लम्बतर्कंगी]  
 लंबा तगका 154.15  
 ल म क्रै दू न  
 सायन यंत्र 758.27  
 लम्हा  
 क्षण 50.11  
 लम्हाती  
 अल्प कालीन 38.8  
 लय  
 अभिनय गति 464.22  
 आवृत्ति 71.1  
 छंद गति 452.35  
 रुब 1031.9  
 ताल लय 458.37  
 नदी विलय 21.25  
 नास 531.1  
 नीर क्षीर मिश्रण 1008.3  
 प्रलय 530.1  
 मूर्च्छा 264.5  
 लय 458.22 ⇌  
 संगीत तर्ज 458.14

लम्बिश्रण 1008.12  
 लय छेकना  
 गाना 480.43  
 लयन  
 विलयन 21.26  
 लय पर होना  
 नियमित होना 71.8  
 लयपूर्ण  
 प्रवाहशील 1041.8  
 लयपूर्ण 458.58 ⇌  
 लयपूर्णता  
 सुरीलापन 459.34  
 स्वर सामंजस्य 480.15  
 लयबद्ध  
 नियमित 71.10  
 लयपूर्ण 458.58  
 स्वर सामंजस्यपूर्ण 480.45  
 लयबद्धता  
 नियमितता 71.2  
 लय स्थल  
 विलय स्थल 21.27  
 लयहीनता  
 अनियमितता 71.3  
 लय होना  
 विलय होना 21.33  
 सम्मिश्रित होना 1008.19  
 लयात्मक  
 पद्यात्मक 451.31  
 लयपूर्ण 458.58  
 संगीतमय 457.43  
 लरज  
 भय कंपन 396.2  
 लरजना  
 आतंकित होना 395.16  
 कंपित होना 1039.17  
 भय कंपित होना 395.14  
 लरजिशा  
 कंपन 1039.11  
 भय कंपन 395.2  
 ललक  
 लालसा 359.5  
 ललकना  
 आतुर होना 496.7  
 आसक्त होना 365.3  
 उत्साहित होना 491.5  
 लालसा करना 359.14  
 लालसा होना 359.13  
 ललकार  
 चुनीती 917.1  
 जोत यान चालन 1079.3  
 ललकार 373.14 ⇌  
 ललकार कर  
 चुनीतीपूर्वक 917.11  
 ललकारना  
 चुनीती देना 917.4  
 जोत यान चलाना 1079.18  
 ललकारना 373.27 ⇌

## ललकी

ललकी	मस्तक रेखा 261.36	ललिता (कौथी)	लवण
कान. ललरी 134.13	ललाट रेखा	पराशक्ति 776.21	असुर सूची 783.8
ललधन	मस्तक रेखा 261.36	ललिता देवी	कटाई उपकरण 561.1
विघलन 501.4	ललाटिका	ललिता देवी 774.80 ⇨	नमक 279.5
ललधना	तिलक 225.19	ललिता देवी: पुत्री	बड़ स्वाद सूची 275.3
आसक्त होना 365.3	ललाम	कुमारी 774.27	लवण त्रय
लालसा करना 359.14	अयाल 135.9	ललिता देवी: बाहिनी	त्रिलवण 279.2
लुब्ध होना 359.15	उत्तम 313.13	त्रिपुर भैरवी 776.15	लवण सागर
सम्मोहित होना 367.4	कलापूर्ण 402.3	लली	सप्त सागर सूची 24.22
ललघाक	घोड़ा 127.35	लरुकी 230.26	लवण स्वाद
लोभी 359.31	धर्म चिह्न 407.7	ललीहीं [ललीहीं]	नमकीनपन 279.1
ललधान	प्रभाव 511.1	हलका लाल 289.62	लवणासक
विघलन 501.4	प्रातः लालिमा 287.14	लल्लान	शत्रुघ्न 770.58
ललधाना	रत्न 96.1	लरुका 230.25	लवणालय
लुब्ध करना 359.16	लाल 289.60	लल्ला	समुद्र 24.1
विघलित होना 501.7	सुंदर 157.7	देवर 724.28	लवणिम
ललघाया [ललघाई]	ललामता	लरुका 230.25	लावण्ययुक्त 157.10
लुब्ध 359.30	कलापूर्णता 402.1	लल्ला [लल्ली]	लवणिमा
ललघाई [ललघाई]	शोभा 226.1	लाका [लाकी] 721.15	नमकीनपन 279.1
लोभी 359.31	ललित	लल्लु	रूप लावण्य 157.6
ललजिह्व	इच्छित 359.19	अप्रवीण 304.9	लवणीय
कुत्ता 127.71	कलापूर्ण 402.3	मूर्ख व्यक्ति 302.2	नमकीन 279.10
ललन	कामुक 237.14	लल्लो चप्पो	लवणोत्तम
प्रेम कर्ता 368.19	क्रीकाप्रिय 469.18	घाटुकारिता 841.17	संध्या नमक 279.9
बालक 230.23	परिपूर्ण 313.14	स्निग्ध भाषण 431.4	लवनी
लरुका 230.25	ललित [ललिता]	लल्लो पत्तो	कटाई उपकरण 561.1
संघलन 1037.4	प्रिय 369.7	स्निग्ध भाषण 431.4	फ़सल कटाई 548.18
ललन [ललना]	लाका [लाकी] 721.15	लवंग	शरीफा 190.32
क्रीकाप्रिय 469.16	सुंदर 157.7	रिवट 1016.18	हंसिया 563.7
ललना	ललित अर्थ	लींग 281.30	लव मात्र
कामुकी 237.15	अर्थालंकार 454.2	लींग 228.24	पुट मात्र 1008.25
प्रेमपात्रा 369.5	ललित कला	लवंग कलिका	लवः राजधानी
बालिका 230.24	ललित कला 397.5 ⇨	लींग 281.30	लवः राजधानी 770.53 ⇨
स्त्री 236.3	ललितता	लवंग कील	लवलीन
ललना प्रिय	कलापूर्णता 402.1	रिवट 1016.18	प्रेमासक्त 368.21
कदंब 13.6	ललित निबंध	लवंग कीलन	लवलीनता
ललरी	ललित निबंध 449.16 ⇨	रिवटाई 1016.6	प्रेमासक्ति 368.8
कान ललरी 134.13	ललित पद	लवंगन	लव लेस
गलकबल 134.14	अलकृत भाषा 421.21	रिवटाई 1016.6	अत्यल्प 942.16
ललरी 134.12 ⇨	शब्दालंकार 454.8	लव	लवहर
ललसना	ललित ललाम	आसक्ति 365.1	यमज संतान 723.16
आसक्त होना 365.3	कलापूर्ण 402.3	कर्तन 543.1	लवा
लालसा होना 359.13	सुंदर 157.7	कान ललरी 134.13	खील 200.8
लुब्ध होना 359.15	ललित लेख	केरा 137.1	लवाक
ललसाना	ललित निबंध 449.16	खंड 938.1	कटाई उपकरण 561.1
सम्मोहन करना 367.5	ललितलोचन	गोंडर घास मूल 112.15	हंसिया 563.7
ललसित	सुनयन 158.14	तल्लीनता 331.6	लवाज्रमा
लालसित 359.28	ललितलोचना	पुट 1008.6	दलबल 691.2
लला	सुनयना 158.15	प्रेम 368.1	लवाज्रमात
लरुका 230.25	ललिता	फ़सल कटाई 548.18	अधि देतन 643.27
ललाइन	कस्तुरी 274.15	रामः पुत्र सूची 770.7	सामान 666.3
व्यापारी वैश्य स्त्री 731.27	कामुकी 237.15	लगन 493.4	लवाज्रिमात
ललाई	दुर्गा 776.7	लव 770.52 ⇨	आवश्यक साधन 558.4
पान लाली 213.23	पार्वती 776.9	लव कुश	लवारा
लालिमा 289.18	प्रेमपात्रा 369.5	लव कुश 770.54 ⇨	गाय बछका 230.14
ललाट	ललिता देवी 774.80	लव कुशः गुरु	लवोपल
प्रारब्ध 260.1	सुंदर स्त्री 157.2	लव कुश गुरु 770.55 ⇨	हिम खंड 90.5
मस्तक 140.12			



**लडा**  
दीप्ति 287.16  
**लडा (प्र)**  
लक्ष 958.50  
**लडाकर**  
जमाकरीगता 616.11  
सेना 932.1  
**लडाकरगाह**  
सेना छावनी 933.7  
**लडाकरी**  
सैनिक 934.1  
**लडाकर**  
सेना 932.1  
**लडाकर नवीस**  
बख्शी 935.18  
**लडाकरी**  
सैन्य 932.34  
**लस**  
गोंद 1012.7  
धिपकन 1012.1  
टीका औषध 176.29  
लार 215.24  
**लसदार**  
धिपधिपा [धिपधिपी] 1012.13  
**लसदार गोंद**  
लसदार गोंद 1012.8  
**लसना**  
आलोकित होना 285.38  
कौधना 287.28  
धिपकाना 1012.12  
नाघना 462.26  
बैठना 1028.8  
शोभान्वित होना 226.7  
**लसलसा [लसलसी]**  
धिपधिपा [धिपधिपी] 1012.13  
**लसलसाहट**  
धिपकन 1012.1  
**लसाना**  
धिपकाना 1012.12  
**लसित**  
आनंदित 382.17  
आलोकित 285.45  
**लसी**  
लस्सी 193.11  
लसीला [लसीली]  
धिपधिपा [धिपधिपी] 1012.13  
**लसोका**  
साग सक्की सूधी 189.4  
**लस्टम पस्टम**  
क्रमहीनतः 992.7  
डगमगाते 1084.53  
शिथिल गति से 1045.17  
**लस्त**  
क्षमताहीन 488.15  
**लस्तक**  
धनुष. मूठ 926.13  
**लस्तपस्त**  
बहुत थका 492.16

शिथिल 1045.13  
**लस्तपस्त चलना**  
शिथिल गमन करना 1045.9  
**लस्तपस्त बाल**  
शिथिल गति 1045.7  
**लस्तान**  
वार्तालाप कुशल 435.25  
**लस्ती**  
लस्ती 193.11  
**लहंगा**  
लहंगा 586.12  
**लहंगा चुन्नी**  
जोका सूधी 583.17  
**लहंडा**  
पशु समूह 690.9  
**लहंडी**  
भेड़ बकरी समूह 690.11  
**लहक**  
लहक 1084.21  
**लहकता [लहकली]**  
उदीप्त (अग्नि) 107.14  
लहकदार 1084.49  
**लहकदार**  
लहकदार 1084.49  
**लहकन**  
अग्नि वर्धन 107.3  
**लहकना**  
अग्नि उदीप्त होना 107.11  
कल्पना में आना 308.11  
कौधना 287.28  
लहकना 1084.42  
**लहक होना**  
लहकना 1084.42  
**लहकाना**  
अग्नि उदीप्त करना 107.12  
**लहकारना**  
अग्नि उदीप्त करना 107.12  
**लहजा**  
लय 458.22  
स्वर भंगिमा 299.4  
**लहटोरा**  
लहटोरा 126.70  
**लहन**  
आदान 637.1  
**लहना**  
उद्ग्रहण करना 1062.26  
काटना 543.13  
क्रय करना 660.14  
खुरचना 542.15  
छीलना 542.12  
पकड़ना 868.30  
फसल काटना 548.39  
**लहना बही**  
देनदार बही 632.16  
**लहनी**  
कर्मफल भोग 260.10  
प्रतिफल भोग 510.4  
प्राप्ति 637.2

**लहम**  
मांस 132.1  
**लहर**  
अनुतरंग 867.8  
आनंद 382.1  
आवेश 371.1  
उत्साह 491.1  
धुमावदार रेखा 968.14  
झोका 85.12  
तह 975.15  
भोग: मद 210.3  
मद 211.1  
मन तरंग 351.6  
लहर 1040.17  
**लहर (वे.)**  
जल तरंग 1040.3  
तरंग 1040.1  
**लहर आरोहण**  
सक्रिय 477.16  
**लहर के साथ बढ़ना**  
नीका धारा में डालना 1080.32  
**लहर झींझा**  
सक्रिय 477.16  
**लहर गति**  
तरंग गति 1035.6  
**लहर वर लहर**  
लहर माला 1040.23  
**लहरदार**  
तरंगित 1040.30  
लहरयुक्त 1040.32  
लहरिल 974.18  
**लहर द्रोणी**  
तरंग द्रोणी 1040.14  
**लहरन**  
नरगण 1040.15  
**लहरना**  
आनंदित होना 382.11  
तरंगित होना 1040.29  
फहरना 1039.16  
संचलित होना 1037.13  
**लहर पादुका**  
सक्रिय बोर्ड 588.41  
**लहर: फन**  
लहराग्र 1040.22  
**लहर माला**  
लहर माला 1040.23  
**लहरयुक्त**  
लहरयुक्त 1040.32  
**लहर शिखर**  
तरंग शिखर 1040.13  
**लहरा**  
आरोह अवरोह क्रम 458.2  
क्षणिक वर्षा 54.8  
धुमावदार रेखा 968.14  
लहर माला 1040.23  
लहरिलता 974.4  
**लहराकार**  
लहरिल 974.18

**लहराग्र**  
लहराग्र 1040.22  
**लहराता [लहराती]**  
तरंगित 1040.30  
बलिष्ठ 160.10  
वनस्पतियुक्त 111.31  
सर्पिल 974.19  
**लहराना**  
अग्नि उदीप्त होना 107.11  
आनंदित होना 382.11  
उँडलना 1032.18  
उत्साहित होना 491.5  
गजगमन करना 1084.29  
धूम धूम कर व्याप्त होना 981.9  
छपकना 668.17  
दुत गमन करना 1044.5  
ध्वजारोहण करना 408.16  
फहरना 1039.16  
लहकना 1084.42  
वक्र जाना 1098.19  
**लहराव**  
गजगामिता 1084.4  
तरंग गति 1035.6  
तरंगण 1040.15  
मद धूम 211.2  
सर्पिलता 974.5  
**लहरित**  
तरंगित 1040.30  
**लहरितता**  
कीरुगेशन 974.8  
**लहरिया**  
आरोह अवरोह क्रम 458.2  
कीरुगेटिड 974.22  
धुमावदार रेखा 968.14  
धेन स्टिच 572.11  
तरंगित 1040.30  
लहरिल 974.18  
लहरिलता 974.4  
**लहरिल**  
अति आनंदित 382.20  
असमतल 987.6  
तरंगित 1040.30  
बलिष्ठ 160.10  
लहरिल 974.18  
वनस्पतियुक्त 111.31  
**लहरिलता**  
तरंगितता 1040.16  
लहरिलता 974.4  
**लहरी**  
आरोह अवरोह क्रम 458.2  
छोटी लहर 1040.20  
तरंगित 1040.30  
तह 975.15  
भोग सेवी 210.9  
रोम लहरी 135.7  
लहर 1040.17  
लहर माला 1040.23  
लहरिल 974.18

## लहरीदार

वनस्पतियुक्त 111.31  
**लहरीदार**  
 कौरुगेटिड 974.22  
**लहरीला [लहरीली]**  
 लहरिल 974.18  
**लहलह**  
 अति आनदित 382.20  
 तरंगित 1040.30  
 बलिष्ठ 180.10  
 वनस्पतियुक्त 111.31  
**लहलहा [लहलही]**  
 अति आनदित 382.20  
 तरंगित 1040.30  
 वनस्पतियुक्त 111.31  
**लहलहाता [लहलहाली]**  
 अति आनदित 382.20  
 तरंगित 1040.30  
 बलिष्ठ 180.10  
 वनस्पतियुक्त 111.31  
**लहलहाना**  
 आनदित होना 382.11  
 उत्साहित होना 491.5  
 गजगमन करना 1084.29  
 घूम घूम कर व्याप्त होना 981.9  
 पुष्ट होना 179.20  
 मेघ समूह आना 55.12  
 वनस्पतियुक्त होना 111.29  
**लहली**  
 दलदल 25.28  
**लहसुन**  
 लहसुन 281.29 ⇨  
 साग सब्जी सूची 189.4  
**लहसुनिया**  
 रत्न सूची 98.5  
 लहसुनिया 96.25 ⇨  
**लहा**  
 लाक्षा कीट 122.41  
**लहालहा**  
 अति आनदित 382.20  
 बलिष्ठ 180.10  
 वनस्पतियुक्त 111.31  
**लहालीट**  
 अति आनदित 382.20  
 तरंगित 1040.30  
 बलिष्ठ 180.10  
 लुब्का [लुब्की] 1031.29  
 लुब् 359.30  
 लोटपोट 384.6  
 वनस्पतियुक्त 111.31  
 -सम्मोहित 387.6  
**लहाली**  
 जलयान रस्ती 1073.16  
**लहि**  
 सीमा तक 1001.44  
**लहीम शहीम**  
 बलिष्ठ 180.10  
 लंबा मोटा 154.17

**लहीमूल जुल्फा**  
 बलिष्ठ 180.10  
**लहु**  
 सीमा तक 1001.44  
**लहु**  
 रुधिर 131.1  
**लहु रोक**  
 टूर्नीकेट 174.14  
**लहुलुहान**  
 रक्तरंजित 289.58  
**लहेसना**  
 पोतना 291.8  
 लीपना 292.11  
 लीपना पोतना 218.27  
**लहोरा**  
 लहटोरा 126.70  
**लौक**  
 कटि 147.7  
 डंठल भूसा 114.5  
 मात्रा 946.3  
**लौग**  
 लौग 586.31 ⇨  
**लौगल**  
 अर्ध चंद्रमा छोरे 8.7  
 कृषक 548.2  
 ताड़ 13.8  
 लंगर 1073.17  
 लग्गा 563.6  
 हल 563.8  
**लौगल कर्म**  
 हल कर्म 548.3  
**लौगल ध्वज**  
 बलराम 771.74  
**लौगल रेखा**  
 हल रेखा 551.20  
**लौगल स्थान**  
 लंगरगाह 1069.11  
**लौगली**  
 गज पिप्पली 281.14  
 नारियल 13.11  
 बलराम 771.74  
**लौगलीषा**  
 हल लट्ठा 563.13  
**लौगूल**  
 पशु पूँछ 151.10  
**लौगूली**  
 बंदर 127.86  
 लंगूर 127.88  
**लौघ**  
 छलौंग 1086.10  
 लंघन 1097.7  
**लौघता [लौघती]**  
 छलौंगता [छलौंगती] 1086.23  
**लौघना**  
 छलौंगना 1086.18  
 पार जाना 1097.9  
 पीछे छोड़ना 1095.10  
 मर्यादा लौघना 809.4

**लौघना 1097.12 ⇨**  
**लौघने वाला**  
 लंघक 1097.22  
**लौघक**  
 लौघन कर्ता 843.24  
**लौघन**  
 चंद्रमा कलंक 8.8  
 धिहन 407.1  
 दुर्गुण 314.4  
 मिथ्या आरोप 875.10  
 रत्न दोष 98.2  
 लौघने 843.7 ⇨  
**लौघन कर्ता**  
 लौघन कर्ता 843.24 ⇨  
**लौघनः तिलक**  
 लौघनः तिलक 843.8 ⇨  
**लौघना**  
 आरोप 875.7  
 निंदा 843.1  
**लौघनीय**  
 अपमान्य 855.12  
**लौघित**  
 अपमानित 855.11  
 धिस्तित 407.23  
 लौघित 843.23 ⇨  
**लौघ्य**  
 अपमान्य 855.12  
**लौघितपूँछ (अँ)**  
 देशांश 10.14  
**लौघी (अँ)**  
 धुलाईघर 220.8  
 प्रक्षाल्य वस्त्र 220.5  
**लौघा [लौघी]**  
 लंबाई युक्त 965.10  
 लंबे क्रद वाला 154.13  
**ला-**  
 रहित उपसर्ग सूची 1007.5  
**ला (अँ)**  
 विधि (क्रानून) 878.1  
**लाइकनेस (अँ)**  
 चित्र 404.1  
**लाइट**  
 लाइट 413.17 ⇨  
**लाइट (अँ)**  
 लाइट 413.17  
**लाइटनिंग रीड**  
 लाइटनिंग रीड 102.20 ⇨  
**लाइटनिंग रीड (अँ)**  
 लाइटनिंग रीड 102.20  
**लाइट बल्ब (अँ)**  
 बल्ब 285.23  
**लाइट मीटर (अँ)**  
 प्रकारा मापी 958.52  
**लाइट म्यूजिक (अँ)**  
 सुगम संगीत 457.25  
**लाइटर**  
 लाइटर 107.9 ⇨

**लाइटर (अँ)**  
 लाइटर 107.9  
**लाइट वेब (अँ)**  
 प्रकारा तरंग 1040.5  
**लाइट सिग्नल (अँ)**  
 प्रकारा संकेत 285.30  
**लाइट हाउस (अँ)**  
 प्रकारा स्तंभ 285.31  
**लाइन (अँ)**  
 क्यू 991.10  
 नगर खंड 619.5  
 रेखा 968.6  
**लाइनः 12**  
 इंच 959.9  
**लाइन क्रम**  
 क्यू क्रम 991.9  
**लाइनर (अँ)**  
 नौका सूची 1072.3  
 यात्री पोत 1072.41  
**लाइन से**  
 क्यूबद्धतः 991.32  
**लाइक्र इंचयोरेंस (अँ)**  
 जान बीमा 631.19  
**लाइक्र बोट (अँ)**  
 रखा नौका 1072.32  
**लाइब्रेरियन (अँ)**  
 पुस्तकालय अध्यक्ष 669.14  
**लाइमलाइट (अँ)**  
 स्टारडम 464.4  
**लाइलाज**  
 अधिकित्स्व 171.21  
 अनिवार्य 919.9  
**लाइलाह इलत्लाह मुहम्मदुर रसूलत्लाह**  
 कलमा 741.33  
**लाइल्म**  
 अज्ञ 306.16  
 चेतनाहृत 264.21  
**लाइल्मी**  
 अनभिज्ञता 306.6  
 तल्लीनता 331.6  
**लाइम वायर (अँ)**  
 ज़िंदा तार .02.9  
**लाइसेंस (अँ)**  
 अधिभोग पत्र 622.4  
 पट्टेदारी 622.5  
**लाई**  
 खील 200.8  
 लौई 585.16  
**लाईमान**  
 आदर्शहीन 828.11  
 कृतघ्न 833.11  
 धर्महीन 735.15  
 बेईमान 816.5  
**लाईमानी**  
 गलत लील 962.5  
 बेईमानी 816.2  
**लाई कुतरी**  
 युगली 843.10

लाउंज (अँ)	शत्रुता 706.1	हलीलता 733.6	लाइ करना
दर्शक प्रतीकालय 471.3	लागत	लाज आना	पुष्पकारणा 393.14
प्रतीक्षा कक्ष 614.11	मूल्य 664.1	लज्जित होना 845.6	लाइ करना 721.9 ⇨
लाउड स्पीकर	लागत 644.7 ⇨	लाज न आना	लाइ चाय
लाउड स्पीकर 300.9 ⇨	लागत आकलन	लाज न आना 648.3 ⇨	लाइ प्यार 721.6
लाउड स्पीकर (अँ)	लागत आकलन 644.11 ⇨	लाजबंद [लाजबंदी]	लाइ जताना
लाउड स्पीकर 300.9	लागत आना	लज्जारील 845.11	लाइ करना 721.9
लाकड़ी	लागत आना 644.17 ⇨	लाजबंद	लाइपूर्ण
लाठी 923.9	लागत निर्धारण	रत्न सूची 96.5	लाइपूर्ण 721.14 ⇨
लाक्षण	लागत आकलन 644.11	लाजबंद	लाइ प्यार
लाक्षणीय 317.21	लागी	लाजबाब	लाइ 721.3
लाक्षणिक	आसक्ति 365.1	अनुपम 312.17	लाइ प्यार 721.6 ⇨
अंगविद्य 261.45	अन्नाद 354.4	निरुत्तर 335.10	लाइला [लाइली]
पारिभाषिक 317.15	तल्लीनता 331.6	लाजा	लाका [लाकी] 721.15
प्रतीकात्मक 408.17	प्रेम 368.1	खील 200.8	लाइला बेटा
लाक्षणात्मक 428.30	प्रेमासक्ति 368.8	लाजिक (अँ)	प्रिय पुत्र 718.7
लाक्षणीय 317.21	लगन 493.4	तर्क शास्त्र 325.17	लाइली
लाक्षणिक अर्थ	लालसा 359.5	लाजिम	प्रिय पुत्री 718.11
लाक्षणार्थ 426.5	लागुशिक	वैश्वक्यतापूर्ण 339.36	लाइली पुत्री
लाक्षण्य	लाठीधारी 930.17	लाजिमी	प्रिय पुत्री 718.11
प्रतीकात्मक 408.17	लागू	अनिवार्य 919.9	लाका [लाकी]
लाक्षणात्मक 428.30	आधरणीय 808.13	लाजिमी	लाइ [लाइ] 721.15 ⇨
लाक्षा	विनियोज्य 438.7	अवश्यभावी 68.15	लाइ
लाक्षा 290.26 ⇨	वैद्य 878.26	लाजिमी	लखू 203.39
लाक्षा कीट	संगत 438.6	आवश्यक 524.20	लाको
लाक्षा कीट 122.41 ⇨	संलग्न होने वाला 1010.19	वैश्वक्यतापूर्ण 339.36	लाका [लाकी] 721.15
लाक्षा तरु	लागू होना	लाजीशियन (अँ)	लाकिया
पलाश 13.13	विनियोज्य होना 438.4	तर्क शास्त्री 325.26	छलिया दलाल 659.3
लाक्षिक	लाघव	लाट	लात
अत्यधिक 944.7	स्फूर्ति 491.2	मीनार 611.9	ठोकर 1084.10
लाख	लाघवी	वस्त्र 579.1	पद प्रहार 918.19
अत्यधिक 944.7	बाज़ीगर 473.18	स्मारक: प्रकार सूची 77.13	पैर 149.12
धेपय्य सूची 1012.4	लाघार	स्मारक स्तंभ 255.13	लात मारना
लाक्षा 290.26	असहाय 701.8	ला-री	ठोकर लगाना 1084.34
लाख 948.75 ⇨	क्षमताहीन 488.15	दूत सूची 481.2	पद प्रहार करना 918.29
लाख जतन	दुःखी 391.24	लाटरी 481.20 ⇨	लातर
बहुविध प्रयत्न 489.3	दुर्दशाग्रस्त 627.22	लाटरी घयन 1009.5	कत्तर 938.6
लाख टके की बात	नगण्य 853.10	लाटरी घयन -	लातादाव
बहुमूल्य गुर 517.5	विकल्पहीन 516.5	लाटरी घयन 1009.5 ⇨	असंख्य 944.8
लाखिराज	विषय 901.11	लाट साहबी	लाइ
करमुक्त 647.42	साधनहीन 558.20	पदाधिकारिता 652.3	आँत्र 152.2
लाख़ेरा	लाघारगी	लाठालाठी	खेप 686.3
आयारागर्द 1090.43	असहायता 701.2	लट्ठम लट्ठा 905.24	माल भार 1061.7
लाग	विकल्पहीनता 516.3	लाठी	रहँट. घड़िया 19.14
आलेप 292.1	विषयता 901.3	आधार सूची 596.2	लाइ 478.18 ⇨
आसक्ति 365.1	साधनहीनता 558.3	मूठदार डंडा 923.6	लाइ 1061.5 ⇨
ईर्ष्या 709.1	लाघार हो कर	लाठी 923.9 ⇨	लाइ कर ले जाना
जादू 474.2	विषयत 901.13	लाठीधारी	भार वहन करना 1061.16
जादू खेल 474.1	लाघारी	लाठीधारी 930.17 ⇨	लाइ क्षमता
लगन 493.4	असहायता 701.2	लाठी बरदार	भार वहन क्षमता 1061.12
लालसा 359.5	दुःखग्रस्तता 391.2	लाठीधारी 930.17	लाइना
वशीकरण 758.22	विषयता 901.3	लाठीबाज़	बलात देना 638.10
वार्षिक देय 634.10	लाघारी से	लाठीधारी 930.17	भेजना 1054.10
शत्रुता 706.1	विषयत: 901.13	लाठीबाज़ी	लाइना 1061.17 ⇨
संयुति स्थल 1010.11	लाज	लट्ठम लट्ठा 905.24	लाइ फ़ैद
लागबाट	प्रतिष्ठा 849.2	लाइ	लदाई 1061.13
प्रतिद्विधा 707.1	लज्जा 845.1	लाइ 721.3 ⇨	लाधिया
वैमनस्य 706.10	लज्जारीलता 845.2		भार बाहक 1061.22

## लादी

लघाऊ 1061.25  
**लावी**  
 लाद 1061.5  
**लाप (अं)**  
 टैमिस कोर्ट 482.8  
**लाप टैमिस (अं)**  
 टैमिस 477.6  
**लानत**  
 भर्त्सना 843.6  
**लानत भलामत**  
 डॉट 373.11  
 भर्त्सना 843.6  
**लाना**  
 उत्पादन करना 546.7  
 लाना 1053.6 ⇨  
**लाना: कर्म**  
 आनयन 1053.1  
**लाने**  
 कारणतः 507.7  
**लाने बाला**  
 आनयन कर्ता 1053.11  
**लाप करना**  
 उल्लाप करना 435.23  
**लापता**  
 पलायित 916.19  
 विलब्ध 883.7  
**लापरवा**  
 दायित्व अपालक 896.6  
**लापरवाह**  
 असावधान 498.6  
 उपेक्षक 185.8  
 निश्चित 378.8  
 समय अपालक 62.14  
**लापरवाही**  
 असावधानी 498.1  
 उपेक्षा 185.2  
 निश्चितता 378.2  
 समय अपालन 62.2  
**लापरवाही से**  
 असावधानतः 498.8  
**लापी**  
 वार्तालाप कर्ता 435.24  
**लाबर**  
 गप्पी 440.9  
**लाबु**  
 धिया 189.19  
**लाभ**  
 आदान 637.1  
 कल्याण 710.2  
 जय 912.1  
 परिणाम प्राप्ति 510.2  
 प्राप्ति 637.2  
 लाभ 646.2 ⇨  
 सफलता 512.1  
**लाभ (दे.)**  
 हित 712.1  
**लाभ कमाना**  
 लाभ कमाना 646.11 ⇨

**लाभकर**  
 लाभप्रद 646.18  
 स्वास्थ्यप्रद 181.6  
**लाभकारी**  
 कल्याणकारी 710.21  
 लाभप्रद 646.18  
 हितकारी 712.13  
**लाभजीवी**  
 मुनाफ़ाख़ोर 865.27  
**लाभ न होना**  
 लाभ न होना 649.7 ⇨  
**लाभ पहुँचाना**  
 हित करना 712.9  
**लाभप्रब**  
 कल्याणकारी 710.21  
 लाभप्रद 646.18 ⇨  
**लाभ हानि**  
 उन्नति अवनति 532.3  
 लाभ हानि 646.1 ⇨  
 विपरीतता: उपमान सूची 310.13  
**लाभ हानि होना**  
 लाभ हानि होना 646.9 ⇨  
**लाभहीन**  
 अनुपयोगी 525.8  
 लाभहीन 649.12 ⇨  
**लाभहीनता**  
 लाभहीनता 649.4 ⇨  
**लाभ होना**  
 लाभ होना 646.10 ⇨  
**लाभांश**  
 लाभांश 646.6 ⇨  
**लाभान्वित**  
 लाभान्वित 646.15 ⇨  
**लाभान्वित होना**  
 लाभ कमाना 646.11  
 लाभ होना 646.10  
**लाभालाभ**  
 उन्नति अवनति 532.3  
**लाम**  
 दस्ता 932.24  
 त्रिगेड 932.30  
**लामकान**  
 आवासहीन 617.11  
**लामज़हब**  
 धर्महीन 735.15  
**लामज़हबीयत**  
 नास्तिकतावाद 760.14  
**लाम पर जाना**  
 युद्ध पर जाना 907.38  
**लामबंद**  
 युद्ध सन्नद्ध 907.43  
 सैन्यीकृत 907.44  
**लामेबंदी**  
 सैन्यीकरण 907.6  
**लामा**  
 लामा 744.41 ⇨  
**लामाबाद**  
 पुरोहितवाद 760.19

**बीद संप्रदाय सूची** 737.15  
**लामुहाल**  
 विवशतः 901.13  
**लामुहाला**  
 विकल्पहीनतः 516.8  
**लायक**  
 अर्हतासंपन्न 303.16  
 योग्य 303.14  
 विद्वान 319.8  
 सद्गुणी 313.15  
**लायक बेटा**  
 सपुत्र 718.5  
**लायली**  
 विद्वत्ता 319.1  
**लायन**  
 बंधक वस्तु 633.26  
**लायब्रेरी (अं)**  
 पुस्तकालय 669.13  
**लायब्रेरी ऐडिशन (अं)**  
 हार्डकवर पुस्तक 446.7  
**लाया [लाई]**  
 आनीत 1053.10  
**लार**  
 लार 215.24 ⇨  
**लार आना**  
 मीठा लगना 280.27  
**लार टपकते फिरना**  
 स्वाद लुप्त होना 275.13  
**लार टपकाना**  
 लुब्ध होना 359.15  
**लारी**  
 बस 1071.60  
**लार्क (अं)**  
 गायक पक्षी सूची 126.9  
**लार्ज (अं)**  
 बड़ा साइज़ 961.13  
**लार्ज साइज़ (अं)**  
 बड़ा साइज़ 961.13  
**लार्वा**  
 लार्वा 242.6 ⇨  
**लार्वा (अं)**  
 तारवा 242.6  
**लाल**  
 पुत्र 718.3  
 प्रिय 369.7  
 प्रेमी 368.2  
 बालक 230.23  
 माणिक 96.22  
 लड़का 230.25  
 लाल 289.60 ⇨  
 वर्णाली रंग सूची 289.9  
**लाल (दे.)**  
 रक्तरजित 289.58  
**लाल कमल**  
 रक्त कमल 14.6  
**लाल गानैट**  
 गोमेद 96.9

**लालच**  
 दाम नीति 819.5  
 लोभ 359.6  
**लालच आना**  
 लुब्ध होना 359.15  
**लालच देना**  
 लुब्ध करना 359.16  
**लालच प्रदान**  
 दाम नीति 819.5  
**लालचहीन**  
 लोभहीन 360.15  
**लालचहीनता**  
 लोभहीनता 360.3  
**लालची**  
 अति कृपण 639.27  
 धम लोलुप 628.26  
 लालसी 359.29  
 लोभी 359.31  
 स्वार्थी 712.16  
**लाल चुन्नी**  
 लाल चुन्नी 585.15 ⇨  
**लाल चूड़ा**  
 लाल चूड़ा 802.13 ⇨  
**लाल ज़मीन: चीट**  
 लाल ज़मीन: चीट 578.10 ⇨  
**लाल जाति**  
 लाल जाति 730.12 ⇨  
**लाल झंडी**  
 लाल झंडी 1067.15 ⇨  
**लालटेन**  
 लालटेन 285.12 ⇨  
**लाल टोपी**  
 तुर्की टोपी 584.11  
**लाल दुपट्टा**  
 लाल चुन्नी 585.15  
**लालन**  
 प्रेम कर्ता 368.19  
 लाड़ 721.3  
**लालन पालन**  
 पालन पोषण 720.1  
**लाल नमक**  
 सेंधा नमक 279.9  
**लालना**  
 गोदी में हुलारना 721.11  
 लाड़ करना 721.9  
**लाल पगड़ी**  
 वर: पगड़ी 802.25  
**लाल पत्थर**  
 लाल पत्थर 99.7 ⇨  
**लाल परी**  
 परी सूची 782.5  
 मद्य 209.1  
 रोहू 125.11  
**लाल पानी**  
 मद्य 209.1  
**लाल पासा**  
 लाल पासा 479.23 ⇨

लाल पीला  
लाल पीला 289.77 ⇨  
लाल पीला [लाल पीली]  
कुन्द 373.28  
लाल पैठा  
कद्दू 189 10  
लाल बत्ती  
लाल बत्ती 1067 14 ⇨  
लाल बलुआ पत्थर  
लाल पत्थर 99 7  
लाल बुझक्कड़  
अटकलबाज़ 947 20  
लाल बुझक्कड़ 302 3 ⇨  
लाल बुझक्कड़ी  
अटकलबाजी 94 4  
लाल बेग  
कीट सूची 122 12  
लाल मणि  
माणिक 96 22  
लालमन  
माणिक 96 22  
लाल मांस  
लाल मांस 206 12 ⇨  
लाल मिट्टी  
लाल मिट्टी 100 22 ⇨  
लाल मिरच  
लाल मिर्च 278 6  
लाल मिर्च  
लाल मिर्च 278 6 ⇨  
लालमूँहा  
मूँह छाला 167 10  
लाल मुनियों  
मुनियों 126 63  
लाल वस्त्र  
लाल वस्त्र 578.22 ⇨  
लाल वाइन  
लाल वाइन 209 16 ⇨  
लाल सफेद  
लाल सफेद 289 78 ⇨  
लालसा  
आतुरता 496.3  
दोहद 798 5  
लालसा 359.5 ⇨  
लालसा करना  
लालसा करना 353.14 ⇨  
लाल साग  
चौलाई 189.20  
लालसा पूरी होना  
इच्छा पूरी होना 361 7  
लालसा पूर्ति  
तृप्ति 361.5  
लालसाहीन  
संतोषशील 360 19  
लालसाहीनता  
इच्छाहीनता 360.21  
लालसा होना  
लालसा होना 359 13 ⇨

लालसित  
लालसित 359.28 ⇨  
लालसी  
आतुर 496.11  
इच्छुक 359 2 1  
लालसी 359 2 2 ⇨  
लाल सैकायर  
माणिक 96 22  
लाला  
थूक 215 22  
देवर 724.28  
लड़का 230 25  
लार 215 24  
लालसा 359 5  
व्यापारी वैश्य 731 26  
संकट 909 1  
लाला [लाली]  
लाड़ा [लाड़ी] 721 15  
लालाइन  
व्यापारी वैश्य स्त्री 731 27  
लालाटिक  
प्रारब्धवादी 260 29  
लालायन  
आलोभन 359 8  
लालायित  
लालसी 359 29  
लुब्ध 359 30  
लाला रस  
लार 215 24  
लालिक  
नर भैस 127 20  
लालित्य  
कलापूर्णता 402 1  
काव्य गुण सूची 453 4  
प्रियता 369 1  
सुदरता 157 1  
लालित्यपूर्ण  
कलापूर्ण 402.3  
लालिमा  
लालिमा 289 18 ⇨  
लाली  
पान लाली 213 23  
प्रातः लालिमा 287 14  
बालिका 230.24  
भूत बाधा 759 7  
मद 211 1  
रुज 225 12  
लालिमा 289 18  
लाले पड़ना  
अपर्याप्त रहना 942 9  
आहार अभाव होना 627 11  
लालो  
चकवा 126 31  
लाल  
अग्नि 106 1  
कर्तन 543 1  
फ़सल कटाई 548 18

लावक  
कर्तक 543 16  
खरीफ़ फ़सल 547 7  
घरसा कुआँ 19 11  
लावणिक  
नमकीन 279 10  
लावणी  
लावनी 457 41  
लावण्य  
नमकीनपन 279 1  
रूप लावण्य 157 5  
लावण्यमय [लावण्यमयी]  
लावण्ययुक्त 157 10  
लावण्ययुक्त  
लावण्ययुक्त 157 10 ⇨  
लावण्यवान [लावण्यवती]  
लावण्ययुक्त 157 10  
लावनी  
लावनी 457 41 ⇨  
लाव लश्कर  
असबाब 1087 31  
दलबल 691 2  
सामान 666 3  
लाव लाव  
जल्दबाजी 496 4  
लावा  
खील 200 8  
ज्वालामुखी लावा 9 20  
लावा 99 2 ⇨  
लावा (अँ)  
लावा 99 2  
लावा पत्थर  
ग्रनाइट 99 3  
र गल्ट 99 6  
लाग परछन  
लावा परछन 800 39 ⇨  
लावारिस  
अनाथ 719 5  
उत्तराधिकारीहीन 623 26  
निस्संतान 240 9  
लावारिस (जानवर) 127 97  
लावारिस (जानवर)  
लावारिस (जानवर) 127 97 ⇨  
लावारिसी  
अनाथता 719 1  
आवासहीनता 617 1  
उत्तराधिकारीहीनता 623 18  
लाहा  
शव 254 1  
लाशघर  
शवगृह 254.8  
लाबा  
इच्छा 359 1  
लाबी [लाबिणी]  
इच्छुक 359.21  
लास  
आनंद 382 1

क्रीड़ा 469 4  
दीप्ति 287 16  
प्रकार 287 1  
प्रसन्नता 381 1  
लार 215 24  
लासक  
दृश्यकक्ष 614 25  
नर्तक 462 13  
लासन  
नर्तन 462 12  
पद सघालन 462 24  
लासानी  
अनुपम 312 17  
लासि  
लास्य 462 9  
लासिकी  
नर्तकी 462 14  
लासी  
नर्तक 462 13  
लासी [लासिनी]  
क्रीड़ाप्रिय 469 16  
लासु  
लास्य 462 9  
लास्ट सरमन (अँ)  
अंतिम उपदेश 739 14  
लास्य  
नृत्य 462 3  
लास्य 462.9 ⇨  
स्त्री नृत्य 462 4  
लास्य  
नर्तकी 462 14  
लाह  
अल्लाह 764 12  
लाक्षा कीट 122 41  
लाहल  
असंभव 68 14  
लाही  
खील 200 8  
लाहीरी नमक  
सेधा नमक 279 9  
लाहील  
भर्त्सना उद्गार सूची 843 28  
लिंग  
जननेद्रिय 152 9  
देव मूर्ति 746 1  
धर्म चिह्न 407 7  
पुरुष जननेद्रिय 152 10  
प्रधान 764.23  
लक्षण 317.5  
शब्द लिंग 425 46  
शिवलिंग 746 14  
लिंग देह  
सूक्ष्म शरीर 139 2  
लिंगधर  
नक्रली साधु 790 18  
लिंग पीठ  
शिवलिंग अरघा 746.15

## लिंग पुराण

लिंग पुराण  
पुराण सूची 740 17  
लिंग भेद  
शब्द लिंग 425 46  
लिंगवान  
लिंगायत संप्रदाय 737 59  
लिंग बेदी  
शिवलिंग अरघा 746 15  
लिंगायत  
लिंगायत संप्रदाय 737 59  
लिंगायत संप्रदाय  
लिंगायत संप्रदाय 737 59 ⇌  
लिंगी  
ईश्वर 764 1  
लिंगीय  
जननेद्रीय 152 18  
लिंगेन्द्रिय  
पुरुष जननेन्द्रिय 152 10  
लिंगर (अं)  
डाट 611 28  
लिंगर (अं)  
डाट 611 28  
लिंग  
आलेप 292 1  
लिंग  
कारणत 507 7  
लिंगध्या  
स्तारहीन बहुलेखक 448 3  
लिख कर देना  
दस्तावेज लिखना 412 41  
लिखत  
दस्तावेज 412 19  
लिखत पढ़त  
दस्तावेज लेखन 412 23  
लिखत में देना  
दस्तावेज लिखना 412 41  
लिखन  
लिपिबद्धन 412 2  
लिखना  
उत्कीर्ण करना 406 36  
चित्राकन करना 404 35  
दस्तावेज लिखना 412 41  
लिपिबद्ध करना 412 36  
लेखन करना 448 25  
लिखना पढ़ना  
शिक्षा अर्जन करना 321 34  
लिखनी  
प्रारब्ध 260 1  
मस्तक रेखा 261 36  
लिखने वाला  
प्रारब्ध विधाता 260 7  
लिखबा  
दस्तावेज लेखक 412 24  
लिखा  
प्रारब्ध लेख 260 6  
लिखा [लिखी]  
उत्कीर्ण 406 41  
दस्तावेज लिखित 412 49

प्रविष्टिकृत 412 50  
लिखित 448 26  
लिपिबद्ध 412 44  
लिखाई  
आलेख 412 17  
लिपिबद्धन 412 2  
सुलेख 412 10  
हस्तलेख 412 6  
हस्तलेख शैली 412 7  
लिखाई कागज़  
कागज़ 415 9  
लिखाई पढ़ाई  
शिक्षा अर्जन 321 22  
लिखापकी  
दस्तावेज लेखन 412 23  
पत्र व्यवहार 444 5  
लिखापकी करना  
दस्तावेज लिखना 412 41  
लिखापट  
लिपि 409 1  
हस्तलेख 412 6  
हस्तलेख शैली 412 7  
लिखित  
उत्कीर्ण 406 41  
उल्लिखित 437 13  
दस्तावेज लिखित 412 49  
प्रविष्टिकृत 412 50  
लिखित 448 26 ⇌  
लिपिबद्ध 412 44  
लिखितता  
लिपिबद्धता 412 3  
लिखित नोट  
लिखित नोट 412.26 ⇌  
लिखित प्रमाण  
दस्तावेज 412 19  
लिखित लेख  
आलेख 412 17  
लिखित संदेश  
पत्र 444 1  
लिखी  
चित्रकार 404 25  
लिखीरा [लिखीरी]  
साहित्य लेखक 448 2  
लिग्नाइट  
लिग्नाइट 110 11 ⇌  
लिग्नाइट (अं)  
लिग्नाइट 110 11  
लिज़लिज़ा [लिज़लिज़ी]  
गिलगिला [गिलगिली] 269 20  
घृणित 370 6  
लिज़लिज़ापन  
गिलगिलापन 269 6  
सिटरेरी (अं)  
साहित्यिक 450 32  
लिटाना  
जीतना 912 12  
धरना 1019 10

लिट  
शेट 202 19  
लिट्टी  
बाटी 202 17  
लोई 195 15  
लिड (अं)  
ढक्कन 675 6  
लिथोग्राफ (अं)  
अनुलिपि प्रकार सूची 414.6  
लिनन  
लिनन 580 39 ⇌  
लिनन (अं)  
लिनन 580 39  
लिप  
आलेपक 292 12  
लिपट  
आलेप 292 1  
लिपटन  
आलिगन 237 8  
लिपटना  
आलिगन करना 237 12  
मुठभेड़ करना 915.8  
लिपना 292 10  
लिपटवी  
अर्ध प्रगाढ़ 80 9  
लिपटा [लिपटी]  
आलेपित 292 13  
लिपटा [लिपटी] 575 12 ⇌  
वेष्टित 592 17  
लिपटाई  
लपटन 575 2  
वेष्टन 592 5  
लिपटाना  
लपटना 575 11  
लीपना 292 11  
वेष्टित करना 592 11  
लिपटाब  
आलेपन 292 3  
लिपडी  
परिधान सामग्री 583 2  
लिपना  
लिपना 292 10 ⇌  
लिपसवी  
अर्ध प्रगाढ़ 80.9  
लिपस्टिक  
लिपस्टिक 225 25 ⇌  
लिपस्टिक (अं)  
लिपस्टिक 225 25  
लिपा [लिपी]  
आलेपित 292 13  
पुता [पुती] 291 19  
लिपाई  
आलेपन 292 3  
पलस्तरण 599 28  
लिपाई पुताई  
ऊपरी परिवर्तन 532.6  
लिपाई पुताई 218.4 ⇌

लिपि  
पांडुलिपि 412 29  
लिपि 409 1 ⇌  
हस्तलेख 412 6  
हस्तलेख शैली 412 7  
लिपिक  
कातिब 413.8  
क्लक 652 36  
लिपिक 412.4 ⇌  
लिपि कर्म  
लिपिबद्धन 412 2  
लिपिकार  
कातिब 413 8  
घिटठा लेखक 632 23  
दस्तावेज लेखक 412 24  
लिपिक 412 4  
लिपि ज्ञान  
साक्षरता 319 6  
लिपिन्यास  
लिपिबद्धन 412 2  
लिपि पटल  
लिपि पटल 415.2 ⇌  
लिपि परिवर्तन  
लियंतरण 412 5  
लिपि पाठक  
कापीहोल्डर 413 25  
लिपि फलक  
लिपि पटल 415 2  
लिपिबद्ध  
दस्तावेज लिखित 412 49  
लिपिबद्ध 412.44 ⇌  
लिपिबद्ध करना  
लिपिबद्ध करना 412 36 ⇌  
लिपिबद्ध कर्ता  
लिपिक 412.4  
लिपिबद्धता  
लिपिबद्धता 412 3 ⇌  
लिपिबद्धन  
लिपिबद्धन 412 2 ⇌  
लिपि शैली  
लिपि शैली 409.2 ⇌  
हस्तलेख शैली 412 7  
लिपि सज्जा  
स्टेशनरी 415 1  
लिपत  
आलेपित 292 13  
आसक्त 365.5  
कुव्यसनी 812.16  
तल्लीन 331.14  
प्रवृत्तिशील 502.9  
प्रेमासक्त 368 21  
संस्मृत 1008.29  
लिप्यक्त  
विभाक्त बाण 926.17  
लिप्य करना  
लीपना 292.11  
लिप्यता  
प्रेमासक्ति 368.8

- लिप्ता होना  
लिपना 292 10
- लिप्ता  
चक्र साठवाँ भाग 960 11  
मिनट 50 9
- लिप्ता: 1/60  
अश साठवाँ भाग 960 13
- लिपिका  
चक्र साठवाँ भाग 960 11
- लिप्यंतरण  
लिप्यंतरण 412.5 ⇨
- लिप्सा  
अधिग्रहणशीलता 635 2  
भोग लिप्सा 363.4  
लालसा 359 5  
स्वाद लोलुपता 275 9
- लिप्सित  
इच्छित 359 19
- लिप्सु  
भोगलिप्सु 363 17
- लिफाफा  
दिखावा 825 1  
लिफाफा 444 11 ⇨
- लिफाफिया  
दिखावटी 825 5
- लिफ्ट  
लिफ्ट 613 13 ⇨  
लिफ्ट 1062 7 ⇨
- लिफ्ट (अं)  
लिफ्ट 1062 7  
लिफ्ट 613 13
- लिफ्टिंग (अं)  
प्रोत्थापन 1062 5
- लिबड्डना  
लिपना 292.10
- लिबडी  
परिधान 583.1
- लिबलिबी  
बदूर घोड़ा 927 7
- लिबास  
परिधान 583 1  
वेश 589 1
- लिबास स्थाना  
परिधान कक्ष 589.3
- लिबिडो (अं)  
मनसिजा 352 5
- लिमिटेड कंपनी  
लिमिटेड कंपनी 692.5 ⇨
- लिमिटेड कंपनी (अं)  
लिमिटेड कंपनी 692 5
- लिया  
जना प्रविष्टि 632.7
- लिया [ली]  
अंतर्ग्रीहीत 1002.27  
आदत्त 637.6  
प्राप्त 637 8
- लियाकृत  
क्षमता 487.7
- प्रवीणता 303 8  
योग्यता 303 1
- लिरिक (अं)  
गीत 451 1
- लिलहार  
गुदाई कर्मी 406 30  
लीला कर्ता 506 11
- लिलार  
कूप निकट होज़ 18 15  
गुदाई कर्मी 406 30  
गुदाई कृति 406 31  
मस्तक 140 12  
लीला कर्ता 506 11
- लिलारी  
रंगरेज 578.2
- लिवाई  
बहन 1061 1
- लिवाना  
दिलाना 638 7  
लाना 1053 6
- लिवाया [लिवाई]  
पहुँचा [पहुँची] 1053 16
- लिवाल  
आदेयी 634 32  
क्रेता 660 3
- लिवालिया  
आदेयी 634 32  
क्रेता 660 3
- लिवाली  
क्रय 660 1
- लिवाली निकाली  
विपणन 658 1
- लिदैया  
आदाता 637.7
- लिसा [लिसी]  
आलेपित 292 13
- लिस्ट क्रम  
सूची क्रम 991 7
- लिस्नर (अं)  
श्रोता 399 6
- लिह  
घाटने वाला 181 57
- लिहाज़  
अनुपेक्षा 184 2  
आदर 854 1  
दया 834.1  
रिआयत 664 16  
लज्जा 845 1  
लज्जाशीलता 845.2
- लिहाज़  
सम्मान 854.3
- लिहाज़ा  
इस लिए 507.10
- लिहाज़  
लिहाज़ 593.11 ⇨
- लिहाज़: ऊपर का पल्ला  
लिहाज़: ऊपर का पल्ला 593.12 ⇨
- लिहाज़: निचला पल्ला  
लिहाज़ निचला पल्ला 593.13 ⇨
- ली (अं)  
प्रतिवात स्थान 1073 24
- लीक  
अनुतरंग 867 8  
पगडंडी 1063 47  
परपरा 795 1  
रुटीन 514 6  
रेखा 968 6  
लीक 1063.16 ⇨  
साउंड ट्रेक 300 17
- लीक पर  
अनुमार्गत 1098 28
- लीक लीक  
अनुमार्गत 1098 28
- लीकातिगमन  
नव प्रयोग 307 6
- लीख  
कीट सूची 122 12
- लीग (अं)  
राजनीतिक दल 885 15
- लीगवाद  
इसलामवाद 884 24
- लीगिज़्म (अं)  
इसलामवाद 884 24
- लीघड़  
आलसी 490 14  
घिपघिपा [घिपघिपी] 1012.13
- लीधी  
खाद्य फल सूची 190.2
- लीज़ (अं)  
अधिभोग पत्र 622 4
- लीज़ क्ररना  
पट्टा करना 622 19
- लीज़ पर देना  
पट्टा करना 622 19
- लीज़ी  
त्वचा मल 215 5  
फोक 526 2
- लीटच (अं)  
तरल भाग एकक 958 6
- लीडर (अं)  
नेता 346.2  
सपादकीय लेख 445 24
- लीडर आक्र अपोज़ीशन (अं)  
विपक्ष नेता 889 11
- लीडर आक्र द हाउस (अं)  
सदन नेता 889 10
- लीडरी  
नेतृत्व 346.1
- लीड  
आस्वादित 275 17  
घाटा [घाटी] 181 67
- लीड  
पशु पिच्छा 216 6
- लीन  
अवशोषित 1002.29
- आसक्त 365 5  
पुला [पुली] 1008.28  
डूबा [डूबी] 1031 31  
तल्लीन 331 14  
नष्ट 531 7  
प्रवृत्तिशील 502.9  
प्रेमासक्त 368 21  
विलयित 21 41  
विलुप्त 824 24  
सलग्न 1010.18  
सम्मिश्रित 1008 26
- लीनता  
ज्ञान ध्यान 755 1  
तल्लीनता 331 6  
प्रेमासक्ति 368 8  
सलग्नता 1010.2  
समाधिरथता 755.4
- लीन होना  
डूबना 1031 20  
तल्लीन होना 331 9  
समाधि लगाना 755.7
- लीप  
आलेप 292 1  
आलेपन 292 3  
मोटी झिल्ली 990.27
- लीप ईयर  
लीप ईयर 42.10 ⇨
- लीपनहार [लीपनहारी]  
आलेपक 292 12
- लीपना  
लीपना 292 11 ⇨  
लीपना (दे.)  
लीपना पोतना 218 27  
लीपना पोतना  
लीपना पोतना 218 27 ⇨
- लीपने वाला  
आलेपक 292 12
- लीपफ़्री (अं)  
घोड़ीफ़ोद 476.9
- लीक़ैट (अं)  
हैंडबिल 442 12
- लीबड़  
नेत्र मल 215.9
- लीबर  
कीचड़ 214 2  
कीचड़दार 214 10
- लीमू  
नींबू 189 24
- लीर  
कत्तर 938.6
- लीरा  
कत्तर 938 6
- लीलना  
पूरा खा जाना 181 34
- लीला  
अभिनय 464 2  
ईश्वरीय लीला 764.2  
करतब 506 7

## लीला कर्ता

कृष्ण लीला 771 24  
 क्रीडा 469 4  
 गुदाई कृति 406 31  
 जीवनी 450.20  
 मनोरजन 469 1  
 रामलीला 463 19  
 लीला 506 8 ⇨  
 विलास 363 6  
**लीला कर्ता**  
 लीला कर्ता 506.11 ⇨  
**लीला कलह**  
 मान कलह 374 4  
**लीलाधर**  
 लीला कर्ता 506 11  
**लीलाधारी**  
 लीला कर्ता 506 11  
 विष्णु 768 1  
**लीला पुरुषोत्तम**  
 विष्णु अवतार 769 5  
**लीलामय**  
 क्रीडापूर्ण 469.15  
 लीला कर्ता 506.11  
**लीलावती**  
 क्रीडाप्रिय स्त्री 469 7  
 व्यक्तिचारिणी 806 11  
**लीलायान [लीलावती]**  
 क्रीडाप्रिय 469 16  
**लीला स्थली**  
 इहलोक 258 11  
**लीलाहर**  
 लीला कर्ता 506 11  
**लीव (अँ)**  
 अवकाश अनुमति 494 8  
**लीवर**  
 लीवर 1062.3 ⇨  
**लीवर (अँ)**  
 लीवर 1062 3  
**लीवर उत्तोलन**  
 लीवर उत्तोलन 1062.2 ⇨  
**लीवर गति**  
 डेकुल गति 1035 5  
**लीवर टेक**  
 लीवर टेक 1062 4 ⇨  
**लीवर से उठाना**  
 लीवर से उठाना 1062.23 ⇨  
**लीवरेज (अँ)**  
 लीवर उत्तोलन 1062.2  
**लुगा**  
 लफंगा 811 8  
**लुगाका**  
 लफंगा 811 8  
**लुगाकी**  
 लफंगी 811 9  
**लुगी**  
 लफंगी 811 9  
 लुगी 586 14 ⇨  
**लुचक**  
 जैन साधु 790 24

**लुचक 1017 10 ⇨**  
**लुचन**  
 उच्छेदन 1017 1  
 उन्मूलन 548.28  
 केश लुचन 798 19  
 छिलका उतराई 542 5  
 लुचन 1017 3 ⇨  
**लुचन करना**  
 लुचित करना 1017 6  
**लुचन संस्कार**  
 केश लुचन 798 19  
**लुधित**  
 लुधित 1017.9 ⇨  
**लुधित करना**  
 लुधित करना 1017.6 ⇨  
**लुधी [लुधिनी]**  
 लुचक 1017 10  
**लुज**  
 पल्लवहीन 115 14  
 लेंगका लूला 153 20  
**लुजपुंज**  
 लेंगका लूला 153.20  
**लुजपुंज करना**  
 क्षमता हरना 488 9  
**लुजा [लुजी]**  
 पखहीन 153.21  
 पल्लवहीन 115 14  
 लेंगका लूला 153 20  
**लुटन**  
 चौर्य वृत्ति 864 1  
**लुटाक**  
 लुटेरा 864 22  
**लुठक**  
 अधिग्रहणशील 635.18  
 लुटेरा 864 22  
**लुठकता**  
 अधिग्रहणशीलता 635.2  
 चौर्य वृत्ति 864 1  
**लुठन**  
 चौर्य वृत्ति 864.1  
 लुठकन 1031 7  
**लुठाक**  
 कीआ 126 22  
 लुटेरा 864 22  
**लुठित**  
 लुठका [लुठकी] 1031.29  
**लुंड मुंड**  
 पल्लवहीन 115 14  
 रुंड 147.2  
**लुंडा मुंडा [लुंडी मुंडी]**  
 पल्लवहीन 115 14  
**लुंडी**  
 गोला 575 5  
**लुआठ**  
 अधजला अंगारा 106.13  
**लुआठा**  
 अग्नि ज्वाला 106.8

**लुआठी**  
 अधजला अंगारा 106.13  
**लुआब**  
 गोंद 1012 7  
 धूक 215.22  
 सारास 449 12  
**लुआबदार**  
 धिपधिया [धिपधिपी] 1012 13  
**लुआर**  
 लू 85 17  
**लुक**  
 अग्नि ज्वाला 106.8  
 इनामल 290 11  
 गुल 106 14  
 धिगारी 106.11  
**लुकना**  
 अस्त होना 5 27  
 गुप्त होना 824 13  
 भूमिगत होना 824 16  
 विलुप्त होना 824 17  
**लुकमा**  
 ग्रास 181 26  
**लुकमान**  
 हकीम 172 11  
**लुकरी**  
 अधजला अंगारा 106.13  
**लुका [लुकी]**  
 आच्छादित 592 13  
 प्रच्छन्न 824 26  
 विलुप्त 824.24  
**लुकाई**  
 गोपन 824.1  
**लुकाधिपी**  
 आँख मिचोनी 476 2  
**लुकाठ**  
 अधजला अंगारा 106 13  
**लुकाठी**  
 अधजला अंगारा 106 13  
**लुकाना**  
 आड करना 605.15  
 गुप्ततः करना 824 15  
 गोपन करना 824.14  
**लुकारी**  
 अधजला अंगारा 106.13  
**लुगकी**  
 परिधान सामग्री 583.2  
**लुगत**  
 शब्द 423.1  
 शब्दकोश 446 12  
**लुगदा**  
 लोंदा 938 32  
**लुगदी**  
 लोंदा 938.32  
**लुगरी**  
 घुगली 843 10  
 परिधान सामग्री 583.2  
**लुगाई**  
 पत्नी 803 6

**लुगात नबीस**  
 कोशकार 446.16  
**लुघ्वाई**  
 दुर्जनता 818 1  
**लुघ्वा**  
 लफंगा 811.8  
 व्यक्तिचारी 806.10  
**लुघ्वा [लुघ्वी]**  
 दुर्जन 818.5  
**लुघ्वा [लुघ्वी] (शास्त्रण व्यंग्य)**  
 केश लुधित 798.45  
**लुघ्वापन**  
 लफंगापन 811.3  
**लुघ्वा लफंगा**  
 लफंगा 811 8  
**लुघ्वी**  
 लफंगी 811.9  
 व्यक्तिचारिणी 806 11  
**लुघ्वी लफंगी**  
 लफंगी 811 9  
**लुटंत**  
 छीन 635 7  
 धन जय 864 26  
 मुनाफाखोरी 865.16  
 लूट 864 21  
 लूटः माल 864.23  
**लुटना**  
 सम्मोहित होना 367.4  
**लुटपुटा [लुटपुटी]**  
 अर्थ प्रगाढ 80.9  
**लुटा [लुटी]**  
 लुटा [लुटी] 864.52 ⇨  
**लुटाई**  
 मुनाफाखोरी 865.16  
 लूट 864 21  
**लुटाक**  
 अपव्ययी 644.24  
 व्ययशील 644.22  
**लुटाना**  
 अपव्यय करना 644.15  
**लुटिया**  
 घुनीटी 213.27  
 लुटिया 684.16 ⇨  
**लुटेरा**  
 लुटेरा 864.22 ⇨  
**लुटेरा [लुटेरी]**  
 लुटेरा 864.22  
**लुटेरापन**  
 अधिग्रहणशीलता 635.2  
**लुठकी पुठकी**  
 लोटपोट 384.6  
**लुठकू**  
 लुठकने वाला 1031.30  
**लुठना**  
 लुठकना 1031.18  
**लुठक**  
 लुठकन 1031 7



**लुक्कता [लुक्कती]**  
लुक्कने वाला 1031.30

**लुक्कन**  
लुक्कन 1031.7 ⇨

**लुक्कना**  
कलाबाज़ी खाना 1086.19  
लुक्कना 1031.18 ⇨

**लुक्कना लुक्कना**  
लुक्कना 1031.18

**लुक्कनी**  
कलाबाज़ी 1086 14

**लुक्कने वाला**  
लुक्कने वाला 1031.30 ⇨

**लुक्का [लुक्की]**  
लुक्का [लुक्की] 1031.29 ⇨

**लुक्की**  
कलाबाज़ी 1086 14

**लुक्की खाना**  
लुक्कना 1031 18

**लुक्कू**  
लुक्कने वाला 1031.30

**लुक्कना**  
लुक्कना 1031 18

**लुका [लुकी]**  
लुक्का [लुक्की] 1031 29

**लुक्का [लुक्की]**  
नटखट 860 27

**लुक्की**  
अघजला अगारा 106 13

**लुक्क**  
आनद 382 1  
मनोरजन 469 1  
स्वाद 275 1

**लुक्कना**  
फसल काटना 548 39

**लुक्काई**  
फसल कटाई 548 18  
रूप लावण्य 157 5

**लुक्करा [लुक्की]**  
फसल काटने वाला 548.19

**लुक्कना**  
अस्ता होना 5.27  
गुप्ता होना 824.13  
विलुप्त होना 824 17

**लुक्कलुक्कना**  
टिमटिमाना 287.32

**लुक्कलुक्कट**  
टिमटिमाहट 287 25

**लुक्क**  
अप्रचलित 515.10  
नष्ट 531.7  
विलब्ध 863 7  
विलुप्त 824.24

**लुक्क होना**  
खो जाना 863.4

**लुक्की**  
अनुपलब्धता 942.4  
विलब्धि 863 1

विलोप 824.7

**लुक्क**  
आकर्षित 1050 28  
आसक्त 365.5  
लुक्क 359.30 ⇨  
सम्मोहित 367.6

**लुक्कक**  
पक्षी आखेटक 252.11  
प्रलोभक 359.32  
सम्मोहनपूर्ण 367 7

**लुक्क करना**  
लुक्क करना 359.16 ⇨  
सम्मोहन करना 367.5

**लुक्कन**  
आलुभन 359 7

**लुक्क होना**  
लुक्क होना 359 15 ⇨  
सम्मोहित होना 367 4

**लुक्के लुक्काव**  
सारास 449 12

**लुक्के लुक्काव**  
सार 84 16

**लुक्कन**  
आलुभन 359 7

**लुक्कना**  
लुक्क होना 359 15  
सम्मोहित होना 367 4

**लुक्का [लुक्की]**  
लुक्क 359 30

**लुक्काऊ**  
प्रलोभक 359 32  
सम्मोहनपूर्ण 367 7

**लुक्काना**  
प्रेमानुरक्त करना 368 14  
फुसलाना 374 16  
लुक्क करना 359 16  
सम्मोहन करना 367 5

**लुक्काव**  
ग्राहक आकर्षण अतिरिक्त माल 661 9

**लुक्कावना [लुक्कावनी]**  
शुद्धा वर्धक 180 17  
प्रलोभक 359 32  
सम्मोहनपूर्ण 367 7  
सुंदर 157 7

**लुक्कित**  
आसक्त 365 5  
लुक्क 359.30

**लुक्का**  
शुक्का 228 13

**लुक्की**  
बाली 228.21

**लुक्कन**  
झूलन 1034 1  
पँडुलम गति 1035 9  
प्रलंबन 1024 1  
विचलन 501.4  
सचलन 1037 4

**लुक्कना**  
झूलना 1034 19  
प्रलंबित होना 1024.8

**लुक्काप**  
नर भैस 127 20

**लुक्कित**  
दमित 911 14  
दोलित 1037.24  
प्रलंबित 1024 10

**लुक्कत**  
धनुष छोर 926 14

**लुक्कार**  
लोहार 565 15

**लुक्कारी भट्टी**  
लुहार भट्टी 109 13 ⇨

**लुक्कू**  
लुक्कू 85 17 ⇨

**लुक्क**  
लुक्कू 85 17

**लुक्कट**  
अग्नि 106 1

**लुक्का**  
अग्नि ज्वाला 106 8  
अघजला अगारा 106 13  
विगारी 106 11

**लुक्की**  
विगारी 106.11

**लुक्काक**  
ओकनी 585 9

**लुक्क**  
छीन 635 7  
ठगी 864 31  
घन जय 864 26  
मुना फाखोरी 865 16  
लुक्क 864 21 ⇨  
लुक्क माल 864 23

**लुक्क खसोट**  
छीना झपटी 635 8  
लुक्कपाट 864 24  
स्वार्थ साधन 712 6

**लुक्कखैव**  
लुक्कखैव 864 24

**लुक्कना**  
छल करना 827 14  
ठगना 864 49  
मुनाफाखोरी करना 865.22  
लुक्कना 864 47 ⇨  
सम्मोहन करना 367 5

**लुक्कपाट**  
लुक्कपाट 864 24 ⇨  
विजित घन 864.28

**लुक्कपात**  
लुक्कपाट 864 24

**लुक्कमार**  
लुक्कपाट 864 24

**लुक्कः माल**  
लुक्क माल 864.23 ⇨

**लुक्का [लुक्की]**  
लुक्का [लुक्की] 864 52

**लुक्कू**  
ठग 864 32  
मुनाफाखोर 865 27  
लुक्करा 864 22

**लुक्कू खसोट**  
लुक्कू पट्ट 864 53

**लुक्कू पट्ट**  
लुक्करा 864 22  
लुक्कू पट्ट 864 53 ⇨

**लुक्का**  
चीटी 122 20  
मकड़ी 122 36

**लुक्किका**  
मकड़ी 122 36

**लुक्कर**  
लुक्कर 791 26 ⇨

**लुक्करन (अँ)**  
प्रोटेस्टेट मतावलबी 736 23

**लुक्करवाद**  
प्रोटेस्टेट मत 736 22

**लुक्करवादी**  
प्रोटेस्टेट मतावलबी 736 23

**लुक्कन**  
कर्तित 543 14

**लुक्कक**  
सज्जी 87 17

**लुक्कनर बेस (अँ)**  
घट्ट स्थल 1069 24

**लुक्कनेसी (अँ)**  
चंद्रोन्माद 354 6

**लुक्कन**  
पशु पूँछ 151 10

**लुक्कन**  
लुक्कन 958.51 ⇨

**लुक्कन (अँ)**  
लुक्कन 958 51

**लुक्कन प्रति मीटर**  
लक्कस 958 50

**लुक्कनिसैस (अँ)**  
घट्टस्वरता 285 35

**लुक्कना**  
प्रलंबित होना 1024 8

**लुक्का**  
लुक्का 153 18 ⇨

**लुक्का [लुक्की]**  
लौका लुक्का 153 20  
लुक्का 153 18

**लुक्कू**  
आलसी 490 14  
नीसिखिया 304 10  
मदधी 302.8  
मूर्ख व्यक्ति 302 2  
पञ्चधी 302 9

**लुक्काई पहाड़ियाँ**  
भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1

## लूसीफर

### लूसीफर

लूसीफर 785 4 ⇨

### लूसीफर (अँ)

लूसीफर 785 4

### लूह

लू 85 17

### लूहर

लू 85 17

### लेडी

विष्ठा 216 2

### लेआउट (अँ)

पृष्ठ सज्जा 447 22

### ले आना

लाना 1053 6

वापस लाना 1053 7

### लेई

चेपय्य सूची 1012 4

लेई 1012 5 ⇨

### लेओफ़ (अँ)

खानाबदी 902 17

### लेक (अँ)

झील 18 4

### लेकिन

कित्तु 507 16

परतुकता उक्ति सूची 339 54

### लेकिन बेकिन

बहानेबाजी 495 5

### लेख

आलेख 412 17

निबध 449 15

लेख 449 17 ⇨

### लेखक

याचिका लेखक 874 31

लिपिक 412 4

### लेखक [लेखिका]

साहित्य लेखक 448 2

### लेखकीय रचना

मुद्रण पाडुलिपि 412 30

### लेख तालिका

विषय सूची 447 7

### लेखन

किताबत 413 7

घिह्दन 407 2

लिपिबद्धन 412 2

साहित्य लेखन 448 1

### लेखन (आयुर्वेद)

प्रभाव मदन 511 5

### लेखन उपकरण

स्टेशनरी 415 1

### लेखन उपस्कर

स्टेशनरी 415 1

### लेखन करना

लेखन करना 448.25 ⇨

### लेखन कर्म

साहित्य लेखन 448 1

### लेखन सामग्री

स्टेशनरी 415 1

### लेखनहार

प्रारब्ध विधाता 260 7

साहित्य लेखक 448 2

### लेखनहारा

प्रारब्ध विधाता 260 7

### लेखनहारा [लेखनहारी]

साहित्य लेखक 448 2

### लेखना

उत्कीर्ण करना 406 36

घित्राकन करना 404 35

दस्तावेज़ लिखना 412 41

लिपिबद्ध करना 412 36

लेखन करना 448 25

लेखा पालन करना 632 37

विमर्श करना 330 16

### लेखना जोखना

तथ्यान्वेषण करना 336 16

### लेखनी

क़लम 416 2

तुलिका 404 33

पख डडी 151 9

पैसिल 416 8

लेखनी 416 1 ⇨

### लेख पटल

लिपि पटल 415 2

### लेख पत्रिका

पत्र 444 1

### लेखपाल

पटवारी 553 11

लेखापाल 632 32

### लेख शैली

हस्तलेख शैली 412 7

### लेख सूची

विषय सूची 447 7

### लेखहारी

पत्र वाहक 444 18

### लेखांकन

उत्कीर्णन 406 19

लेखाकरण 632 30

### लेखांकित

उत्कीर्ण 406 41

लेखाकृत 632 39

### लेखा

आकलन 947 5

किनारा 1000 10

प्रारब्ध लेख 260 6

बैलेस शीट 632 2

रेखा 968 6

लिपि 409 1

लेखा 632.1 ⇨

### लेखाकरण

लेखाकरण 632.30 ⇨

### लेखा कर्म

लेखा पालन 632 31

### लेखा कर्मी

लेखापाल 632 32

### लेखाकृत

लेखाकृत 632.39 ⇨

### लेखागार

अभिलेखागार 669 10

### लेखा चिट्ठा

लेखा चिट्ठा 632 22 ⇨

### लेखा जोखा

लेखा चिट्ठा 632.22

### लेखा पत्र

लेखा चिट्ठा 632 22

### लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक 632 34 ⇨

### लेखा परीक्षा

लेखा परीक्षा 632.33 ⇨

### लेखा परीक्षा करना

लेखा परीक्षा करना 632 38 ⇨

### लेखापाल

पटवारी 553 11

लेखापाल 632 32 ⇨

### लेखा पालन

लेखा पालन 632.31 ⇨

### लेखा पालन करना

लेखा पालन करना 632 37 ⇨

### लेखा पुस्तक

लेखा पुस्तक 632.8 ⇨

### लेखा पुस्तक: खाना

लेखा पुस्तक खाना 632 9 ⇨

### लेखा पुस्तक: खाना शीर्षक

लेखा पुस्तक खाना शीर्षक 632 10 ⇨

### लेखा प्रविष्टि

लेखा प्रविष्टि 632 5 ⇨

### लेखा प्रविष्टि करना

लेखा प्रविष्टि करना 632 36 ⇨

### लेखा बही

लेखा पुस्तक 632 8

लेजर 632 21

### लेखा बही रखना

लेखा पालन करना 632 37

### लेखा रखना

लेखा पालन करना 632 37

### लेखा शीर्षक

लेखा शीर्षक 632 4 ⇨

### लेखा संधि

भूमध्य 141 12

### लेखित

दस्तावेज़ लिखित 412 49

प्रविष्टिकृत 412 50

### लेखित्र (अँ)

वर्ड प्रोसेसर 413 5

### लेखी

उत्कीर्ण कर्ता 406 20

लेखनी 416 1

### लेखे

अनुमानत 308 22

लेखे मे 632 40

### लेखे में

लेखे मे 632.40 ⇨

### लेख्य प्रसंग

अनुबध पत्र 339 2

### लेख्यारूढ

दस्तावेज़ लिखित 412 49

### ले चलना

वहन करना 1061.15

### लेज़म

लेज़ियम 485 17

### लेज़र प्रिंटर

लेज़र प्रिंटर 951 16 ⇨

### लेज़र प्रिंटर (अँ)

लेज़र प्रिंटर 951 16

### ले जाए जाना

पहुँचना 1053 8

### ले जाना

नेतृत्व करना 346 4

पहुँचना 1053 9

वहन करना 1061 15

### ले जाना: कर्म

अपनयन 1053 3

पहुँचाई 1053 5

### ले जाने वाला

अपनायक 1053 14

पहुँचाने वाला 1053 17

### ले जाया

पहुँचा [पहुँची] 1053 16

### लेज़िम

लेज़ियम 485 17

### लेज़ियम

लेज़ियम 485 17 ⇨

### लेज़ुर

कूप रस्सी 19 8

### लेज़ुरा

कूप रस्सी 19 8

### लेट

पक्का फ़र्श 610 2

### लेटना

शयन 1027 1

### लेटना

धरा जाना 1019 9

लेटना 1027 9 ⇨

### लेटने वाला

शायी 1027 16

### लेट लतीफ़

समय अपालक 62 14

### लेट लतीफ़ी

समय अपालन 62 2

### लेटा [लेटी]

अनुकृतिज 1020.12

आधारित 1019 17

शायित 1027.15

### लेटापन

अनुकृतिजता 1020.5

शायिता 1027 7

### लेटू

शायी 1027 16

### लेटे से बैठना: कर्म

उठ बैठन 1029.1

### लेटेक्स (अँ)

रबड़ 416.28

लेडीज़ वीअर (अं)  
स्त्री परिधान 583.10  
लेडीज़ साइज  
लेडीज़ साइज 961.10 ⇐  
लेडीज़ साइज (अं)  
लेडीज़ साइज 961.10  
लेडी डॉक्टर (अं)  
प्रसूति कर्मी 244 5  
स्त्री रोग चिकित्सक 173 9  
लेथ (अं)  
खराद 559 13  
लेन  
आदान 637 1  
पूर्व कर्मफल 260 9  
लेन (अं)  
गली 1063 49  
यातायात लेन 1067 3  
लेनदार  
आदेयी 634 32  
ऋण प्रदाता 633 34  
लेनदारी  
आदेयता 634 13  
लेन देन  
आदान प्रदान 636 1  
परस्परता 703 1  
व्यापार 657.1  
लेन देन: बेईमानी  
आर्थिक बेईमानी 816 3  
लेन देन: रश्म  
नेग 640 7  
लेन देन विवरण  
लेखा 632.1  
लेन देन व्यापार  
साहूकारा 633 3  
लेना  
अवर लेना 1002 15  
आदान करना 637 3  
आदेय 634.31  
उगाही करना 634.17  
उत्सारण करना 1059.25  
उद्ग्रहण करना 1082.26  
उपभोग करना 524 10  
खाना पीना 181.31  
दायित्व लेना 895.6  
पकड़ना 888 30  
भाड़े पर लेना 822.20  
भोजन करना 181 32  
मद्यपान करना 209.40  
लाभ कमाना 646.11  
स्वांगीकृत करना 1002 17  
लेना देना  
आदान प्रदान 636.1  
विपणन करना 658.10  
लेना निःकालना  
विपणन करना 658.10  
लेनी देनी  
आदान प्रदान 636.1

लेने वाला  
अतर्ग्राही 1002.28  
आदाता 637 7  
लेने से इनकार करना  
न लेना 639 13  
लेप  
आलेप 292 1  
पलस्तर 599.27  
पाप 812 1  
पुलटिस 176 19  
मरहम 176.21  
मोटी झिल्ली 990 27  
लेप 176.24 ⇐  
सुगंध लेप 274 3  
लेपक  
पलस्तर कर्मी 599 29  
लेप कामिनी  
धातु स्त्री मूर्ति 406 12  
लेपका  
मोटी झिल्ली 990 27  
लेपन  
आलेपन 292 3  
पलस्तरण 599 28  
लेपना  
चुपड़ना 197 15  
लीपना 292 11  
लेप मूर्ति  
धातु मूर्ति 406.11  
मृत्तिका मूर्ति 406.10  
लेपी  
आलेपक 292 12  
पुताई कर्ता 291 13  
लेप्य  
ढलनीय 545 32  
सौधा 565 18  
लेप्यकार  
आलेपक 292 12  
सौधिया 565 19  
लेप्यता  
ढलनीयता 545 17  
लेप्य नारी  
धातु स्त्री मूर्ति 406.12  
लेप्यमयी  
धातु मूर्ति 406.11  
मृत्तिका मूर्ति 406 10  
लेबर रूम (अं)  
प्रसूति कक्ष 244.7  
लेबरा [लेबरी]  
बर्हहत्था 487.30  
लेबरापन  
बर्हहत्थापन 487.11  
लेब्स (अं)  
टेग 417.4  
प्रवीक चिह्न 408.2  
लेमन [लेमोनेन] (अं)  
ईसाई साधारण जन 743.3  
लेय  
आदेय 634.31

सिंह 127.50  
लेयर (अं)  
तल 985 1  
लेरवा  
लड्डू 203 39  
लेलिहान  
घाटने वाला 181 57  
शिव 767 1  
सर्प 123 10  
लेवका  
मोटी झिल्ली 990 27  
लेवके उतारना  
खुरचना 542 15  
लेवरना  
पलस्तर करना 599.39  
लीपना पोतना 218.27  
लेवा  
क्रय 660.1  
लेवाई  
वहन 1061 1  
लेवाना  
लाना 1053 6  
लेवा बैची  
विपणन 658 1  
लेवार  
मिट्टी गारा 100 9  
लेवाल  
आदेयी 634 32  
लेवालिया  
आदेयी 634.32  
लेश  
कण 938 2  
परमाणु 78 10  
लू 1008.6  
लू अश 939 6  
लेश तत्त्व  
सूक्ष्म मात्रिक तत्त्व 1008.8  
लेशमात्र  
अत्यल्प 942 16  
लेश मात्र  
दूट मात्र 1008.25  
लेशभ्रमत्रता  
अत्यल्पता 942.2  
लेख्या  
अंतरबद्धता 285.34  
कर्मफल आसक्ति 504.11  
दीप्ति 287.16  
लेष्ट  
मिट्टी: ढेला 938.42  
लेस  
गोंद 1012.7  
जालीदार बेल 571.46  
भूसा गारा 100.10  
लेस (अं)  
तप्तता 571.30  
प्रीता 571.26  
लेसादार  
विपथिया [विपथिपी] 1012.13

लेसादार गोंद  
लसदार गोंद 1012.8  
लेसादार थूक  
लार 215 24  
लेसना  
टीप भरना 599 38  
पलस्तर करना 599 39  
लेहंडी  
भेड़ बकरी समूह 690 11  
लेह  
अवलेह 176.12  
घाटनी 201 2  
घाटने वाला 181.57  
लेह्यम 186 7  
लेहक  
घाटने वाला 181.57  
लेहन  
चतुर्विध भोजन सूची 181.7  
लेहन 181.8 ⇐  
लेहना  
आदेय 634.31  
धारा 556 4  
लेही  
घाटने वाला 181 57  
लेह्य  
घटनी 201.2  
लेह्यम 186 7  
लेह्यम  
चतुर्विध आहार सूची 186.3  
लेह्यम 186.7 ⇐  
लेग  
जननेंद्रीय 152 18  
लेगिक  
जननेंद्रीय 152 18  
लेटर्न (अं)  
लालटेन 285.12  
लेंड करना  
अवरोहण करना 1081.47  
लेंड टैक्स (अं)  
भूमि कर 647.8  
लेंडकाल (अं)  
थल दर्शन 1080.11  
लेंड रिफ़ोर्म (अं)  
कृषि व्यवस्था सुधार 553.31  
लेंड रीविन्यु (अं)  
लगान 647 25  
लेंडलींड [लेंडलेडी] (अं)  
भूस्वामी 621.20  
लेंडलींड (अं)  
आवास स्वामी 621.21  
लेंडस्केप (अं)  
प्रकृति चित्र 404.4  
लेंडस्केप चित्र  
प्रकृति चित्र 404.4  
लेंडस्साइड (अं)  
भूस्खलन 9 15  
लेंडस्लिप (अं)  
भूसर्पण 9.14

## लैंडिंग

लैंडिंग  
लैंडिंग 1081.26 ⇨  
लैंडिंग (अं)  
लैंडिंग 1081.26  
लैंडिंग क्राफ्ट  
लैंडिंग क्राफ्ट 1072.50 ⇨  
लैंडिंग क्राफ्ट (अं)  
लैंडिंग क्राफ्ट 1072.50  
लैंडिंग क्रू (अं)  
विमान थल कर्मी 1081.7  
लैंडिंग गीयर (अं) (विमान)  
पहिया 1077.1  
लैंडिंग क्रील्ड (अं)  
अवतरण क्षेत्र 1069.19  
लैंडिंग बीकन (अं)  
अवतरण संकेत 1074.26  
लैंडिंग बीच (अं)  
अवतरण पुलिन 1069.15  
लैंडिंग स्पीड  
लैंडिंग स्पीड 1081.34 ⇨  
लैंडिंग स्पीड (अं)  
लैंडिंग स्पीड 1081.34  
लैंप (अं)  
बल्ब 285.23  
लैंप ग्लोब  
लैंप ग्लोब 285.26 ⇨  
लैंप ग्लोब (अं)  
लैंप ग्लोब 285.26  
लैंप पोस्ट  
लैंप पोस्ट 285.28 ⇨  
लैंप पोस्ट (अं)  
लैंप पोस्ट 285.28  
लैंप शेड  
लैंप शेड 285.27 ⇨  
लैंप शेड (अं)  
लैंप शेड 285.27  
लैंप स्टैंड  
लैंप स्टैंड 285.25 ⇨  
लैंप स्टैंड (अं)  
लैंप स्टैंड 285.25  
लैंस  
लैंस 283.4 ⇨  
लैंस (अं)  
नेत्र लैंस 141.10  
लैंस 283.4  
लैंसवेन (अं)  
फोटोग्राफर 405.15  
लैंसेट (अं)  
नखतर 174.20  
लैंक्वर (अं)  
भाषण 430.8  
शिक्षकीय प्रवचन 322.6  
लैंक्वर  
लैंक्वर 323.18 ⇨  
लैंक्वर (अं)  
लैंक्वर 323.18  
लैंक्वर क्लम (अं)  
भाषण कक्ष 895.2

लैन्वर (अं)  
लाभा 290.26  
लैक्सिकोग्राफर (अं)  
कोशकार 446.16  
लैगवीअर (अं)  
कटि परिधान 586.1  
लैगवीयर (अं)  
कटि परिधान 586.1  
लैगस्पेस (अं)  
पैर फैलावनी 1063.53  
लैजर  
लैजर 832.21 ⇨  
लैजर (अं)  
लैजर 832.21  
लैजर बुक (अं)  
लैजर 832.21  
लैजिस्लेटर (अं)  
विधायक 878.22  
लैजिस्लेटिव अर्सबली (अं)  
विधान परिषद 889.5  
लैजिस्लेटिव कॉन्सिल (अं)  
विधान परिषद 889.5  
लैजिस्लेटिव कॉन्सिल हाउस (अं)  
विधान सभा 695.6  
लैटर (अं)  
पत्र 444.1 -  
लैटर आफ़ ऐटार्नी (अं)  
प्रदत्त अधिकार पत्र 897.8  
लैटरबाक्स (अं)  
डाकबंवा 444.29  
लैटर हेड  
लैटर हेड 444.6 ⇨  
लैटर हेड (अं)  
लैटर हेड 444.6  
लैटिटेयूड (अं)  
अक्षांश 10.13  
लैड (अं)  
सीसा 94.14  
लैडर (अं)  
चर्म 582.1  
लैडर बैग (अं)  
चमड़ा: बैला 873.2  
लैन  
यातायात लेन 1067.3  
लैन डोरी  
चुकचुक गाड़ी 476.10  
संतान समष्टि 718.2  
लैपटॉप  
लैपटॉप 951.4 ⇨  
लैपट राइट (बोलचाल)  
मार्च 1083.11  
लैपट राइट करना  
मार्च करना 1083.22  
लैपटहेड ड्राइविंग  
लैपटहेड ड्राइविंग 1067.6 ⇨  
लैपटहेड ड्राइविंग (अं)  
लैपटहेड ड्राइविंग 1067.6

लैप्रिन्ट कर्नल  
लैप्रिन्ट कर्नल 935.13 ⇨  
लैप्रिन्ट कर्नल (अं)  
लैप्रिन्ट कर्नल 935.13  
लैप्रिन्ट गवर्नर (अं)  
राज्यपाल 891.3  
लैब (अं)  
प्रयोग शाला 307.7  
लैबरेटरी (अं)  
प्रयोग शाला 307.7  
लैमनघूस  
लैमनघूस 203.55 ⇨  
लैमनजूस  
लैमनघूस 203.55  
लैमनद्रूप (अं)  
लैमनघूस 203.55  
लैमन सैट (अं)  
बरतन सैट सूची 680.19  
लैमनेड  
लैमनेड 208.10 ⇨  
लैमनेड (अं)  
लैमनेड 208.10  
लैला  
प्रेमिका 368.3  
लैला की उँगलियाँ  
ककड़ी 190.12  
लैवल क्रॉसिंग  
लैवल क्रॉसिंग 1064.16 ⇨  
लैवल क्रॉसिंग (अं)  
लैवल क्रॉसिंग 1064.16  
लैवल क्रॉसिंग गुमटी  
लैवल क्रॉसिंग गुमटी 1064.17 ⇨  
लैस  
जालीदार बेल 571.46  
शस्त्रधारी 930.8  
शस्त्रीकृत 907.45  
सन्नद्ध 491.16  
लैसन (अं)  
सीख 332.6  
लैस हो कर  
सन्नद्धतः 491.20  
लैस होना  
युद्ध सन्नद्ध होना 907.36  
शस्त्र धारण करना 930.4  
लैसो (अं)  
फेक फेदा 1013.10  
लॉ  
कब तक 39.13  
लॉग  
लॉग 281.30  
लॉबा  
धक्का 938.24  
लॉबा  
मिट्टी. डेला 938.42  
लॉबा  
लॉबा 938.32 ⇨  
लॉबी  
लॉबा 938.32

लॉअर हाउस (अं)  
लोकसभा 889.4  
लॉई  
लॉई 195.15 ⇨  
लॉई 585.16 ⇨  
लोकेंडी  
नव वधु. दासी 801.13  
लोक  
जनता 729.11  
क्षेत्र 34.1  
घेतन जगत 121.1  
चौदह: उपमान सूची 948.47  
जनता 883.5  
लोक-  
जनता विषयक 883.9  
लोक  
जाति 730.1  
जीव जगत 121.3  
तीन उपमान सूची 948.22  
पृथ्वी 9.1  
लोक 258.1 ⇨  
समाज 688.1  
सात: उपमान सूची 948.30  
लोक आयुक्त  
लोक आयुक्त 336.3 ⇨  
लोक आयोग  
लोक आयुक्त 336.3  
लोक कथा  
लोक कथा 450.7 ⇨  
लोक कर्ता  
प्रजापति 787.1  
ब्रह्मा 786.1  
लोक कला  
लोक कला 397.6 ⇨  
लोक कल्याण  
लोककोपकार 832.5  
लोक कवि  
लोक कवि 448.20 ⇨  
लोककार  
शिव 787.1  
लोक गाथा  
लोक कथा 450.7  
लोक गीत  
लोक गीत 457.28 ⇨  
लोक गीतकार  
लोक कवि 448.20  
लोकधार  
पर्यादा 808.5  
लोक चित्र  
लोक चित्र 404.9 ⇨  
लोक छवि  
जनमत 343.6  
लोक जननी  
लक्ष्मी 775.1  
लोकजित  
ऋषि 789.2  
गीतम युद्ध 793.1  
विश्व विजेता 912.20

लोक ज्ञान	लोक प्रेम	लोक संग्रह	लोकान्यन
जातीय ज्ञान 305.10	मिलनसारिता 696.8	लोकोपकार 832.5	नारायण (नर) 764.19
लोकटी	लोक प्रेमी	लोक संपत्ति	लोकार्थ
लोमची 127.79	मिलनसार 696.24	राष्ट्रीय संपत्ति 624.3	दानार्थ 641.22
लोकतंत्र	लोक बंधु	लोक सत्ता	लोकार्थ 832.13 ⇨
गणतंत्र 881.16	सूर्य 8.1	गणतंत्र 881.16	लोकोपकार 832.5
लोक त्रय	लोकबाह्य	प्रभु सत्ता 899.2	लोकित
तीन लोक 258.3	अति प्राकृतिक 762.11	लोकसभा	आलोकित 285.45
लोक द्वेषी	जाति निर्वासित 870.28	लोकसभा	लोकीय
परदेही 709.9	लोकभावी	लोकसभा 889.4 ⇨	इहलौकिक 258.13
लोक धर्म	लोकोपकारी 832.14	लोक समूह	जनता विषयक 883.9
लोक व्यवहार नियम 878.2	लोकमत	जीव जगत 121.3	लोकेश
लोकन	जनमत 343.6	लोक सुंदर	गीतम बुद्ध 793.1
अवलोकन 284.1	लोक मर्यादा	विश्व विख्यात 847.4	पारा 94.9
लोक नाटक	मर्यादा 808.5	लोक सृष्टा	राजा 882.6
लोक नाटक 463.13 ⇨	लोक महेश्वर	सृष्टि रचेता 529.5	लोकेश्वर
लोक नाट्य	विष्णु 768.1	लोक सृष्टि	गीतम बुद्ध 793.1
लोक नाटक 463.13	लोक: माता	सृष्टि रचना 529.1	राजा 882.6
लोकनाथ	दक्ष पुत्री 787.3	लोक सेवक	लोक (अँ)
गीतम बुद्ध 793.1	लोक माता	लोकोपकारी 832.14	रेलगाडी इंजन 1078.10
ब्रह्मा 766.1	ब्रह्मवादिनी 787.5	समाज सेवी 832.15	लोकोप
राजा 882.6	मातृका 774.68	लोक सेवा	पारंपरिक 795.13
विष्णु 768.1	लक्ष्मी 775.1	लोकोपकार 832.5	लोकोक्ति
शिव 767.1	लोकमान्य	समाज सेवा 832.6	कहावत 424.12
लोक निंदक	लोकमान्य	लोकहारी	लोकोत्तर
निंदक 843.22	लोकमान्य 849.21 ⇨	प्रलयंकर 530.8	परलौकिक 258.14
लोक निंदा	लोकमान्यता	लोकहित	विलक्षण 312.16
कुख्याति 848.1	लोकमान्यता 849.8 ⇨	लोकोपकार 832.5	लोकोपकार
लोकनी	लोक रंजन	लोक हितैषी	लोकोपकार 832.5 ⇨
नव वधु: दासी 801.13	लोकोपकार 832.5	लोकोपकारी 832.14	लोकोपकारार्थ
लोक नृत्य	लोक रीति	लोकांतर	लोकार्थ 832.13
लोक नृत्य 462.6 ⇨	परंपरा 795.1	परलोक 258.12	लोकोपकारी
लोकपति	लोक रुढ़ि	लोकाकारा	लोकोपकारी 832.14 ⇨
ब्रह्मा 766.1	कहावत 424.12	आकारा 2.1	लोकोपयोगी
राजा 882.6	लोकल टाइम (अँ)	गुन्य स्थान 33.4	जनोपयोगी 524.19
लोक परंपरा	स्थानीय समय 50.7	लोकाचार	लोकोमोटिव (अँ)
जातीय ज्ञान 305.10	लोकल ट्रेन	मर्यादा 808.5	रेलगाडी इंजन 1078.10
लोक परलोक	लोकल ट्रेन 1071.70 ⇨	लोक व्यवहार नियम 878.2	लोको रीड
दो लोक 258.2	लोकल ट्रेन (अँ)	लोकाट	लोको रीड 1069.31 ⇨
लोक परलोक विचार	लोकल ट्रेन 1071.70	खाद्य फल सूची 190.2	लोग
अध्यात्म 761.1	लोकल बोर्ड (अँ)	लोकातिग	ऋषीला 729.11
लोकपाल	नगर सभा 892.10	अति प्राकृतिक 762.11	जनता 883.5
लोक आयुक्त 336.3	लोकल हीपिंग सेंटर (अँ)	लोकादि	जाति 730.1
लोकपाल 780.6 ⇨	स्थानीय बाज़ार 863.6	सृष्टि रचना 529.1	लोगबाग
लोकपाल सूची	लोक लीक	लोकाधिप	जनता 883.5
लोकपाल सूची 780.7 ⇨	परंपरा 795.1	गीतम बुद्ध 793.1	साधारण जन 728.12
लोक प्रतिज्ञा	लोकबाब	लोकपाल 780.6	लोग सुगार्ड
विश्व विख्यात 847.4	अपुष्ट समाचार 440.5	लोकाधिपति	जनता 883.5
सर्व संज्ञात 441.21	भौतिकतावाद 760.22	राजा 882.6	स्त्री पुरुष 236.1
लोकप्रिय	लोक विख्यात	लोकापवाद	लोगो (अँ)
बहु परिचित 704.25	सर्व संज्ञात 441.21	कुख्याति 848.1	प्रतीक चिह्न 408.2
मिलनसार 696.24	लोक व्यवहार नियम	निंदा 843.1	लोगोस (ग्रीक)
लोकप्रिय 849.22 ⇨	लोक व्यवहार नियम 878.2 ⇨	प्रवाद 440.6	शब्द ब्रह्म 764.30
लोकप्रियता	लोक श्रुति	लोकायत	लोच
बहु परिचितता 704.11	अपुष्ट समाचार 440.5	वाममार्गी 737.47	गदीलापन 1050.15
मिलनसारिता 696.8	ख्याति 847.1	लोकायतवाद	मृण्मयता 545.19
लोकप्रियता 849.9 ⇨	जनश्रुति 424.13	भौतिकतावाद 760.22	लोचदार
	लोक संगीत	लोकायत संग्रहाय	गदीला [गदीली] 1060.36
	लोक संगीत 457.27 ⇨	लोकायत संग्रहाय 737.45 ⇨	

## लोचन

नम्य 1050 32  
 मृण्मय 545 34  
**लोचन**  
 अवलोकन 284 1  
 नेत्र 141 1  
**लोचना**  
 शोभान्वित होना 226 7  
 सुनयना 158 15  
**लोचनातीत**  
 अदृश्यमान 282 20  
**लोचनातीतता**  
 अदृश्यता 282 10  
**लोचुन**  
 लीह चूर्ण 93 10  
**लोट**  
 टामलोट 684 15  
**लोटन**  
 लुङ्कन 1031 7  
 शयन 1027 1  
**लोटना**  
 लुङ्कना 1031 18  
 लेटना 1027 9  
**लोटना पोटना**  
 लेटना 1027 9  
 लोटपोट होना 384 12  
**लोटपोट**  
 अति आनन्दित 382 20  
 लुब्ध 359 30  
*लोटपोट 384.6 ⇨*  
 लोटपोट होता 384 18  
**लोटपोट होता**  
*लोटपोट होता 384 18 ⇨*  
**लोटपोट होना**  
*लोटपोट होना 384 12 ⇨*  
**लोटम पोट**  
 लोटपोट 384 6  
**लोट मारना**  
 लेटना 1027 9  
**लोट लगाना**  
 कलाबाज़ी खाना 1086 19  
**लोटा**  
 टामलोट 684 15  
 डोल सूची 679 34  
*लोटा 684 17 ⇨*  
**लोटा [लोटी]**  
 शयित 1027 15  
**लो टाइड (ऑ)**  
 निम्न माटा 1040 28  
**लोटा डोरी (प्राचीन)**  
*लोटा डोरी (प्राचीन) 1087.33 ⇨*  
**लौदू**  
 शायी 1027 16  
**लोक**  
 मथन 554 12  
**लोकन**  
 झूलन 1034 1  
**लोकना**  
 गोदी में हुलारना 721 11

**लोडबीयरिंग बाल (ऑ)**  
 मुख्य दीवार 607 2  
**लोकितता**  
 उद्विग्नता 377 4  
**लोङना**  
 ओटना 567 11  
**लोट**  
 लूट माल 864 23  
**लोथ**  
 शव 254 1  
**लोथङ्गा**  
 मांस पिंड 132 2  
**लोथारना**  
 कर्षित करना 1051 22  
*लोथारना 1051.24 ⇨*  
**लोथारी**  
 उथला जल नौका कर्षण 1080 5  
 दलदल कर्षण 1051 10  
**लोथ्र**  
*लोथ्र 14.24 ⇨*  
**लोन**  
 नमक 279 5  
*लोन 580.40 ⇨*  
**लोना**  
 फसल काटना 548 39  
**लोना [लोनी]**  
 नमकीन 279 10  
 लावण्ययुक्त 157 10  
**लोनी**  
 ऊसर 552 3  
 नोनिया मिट्टी 100 18  
**लोप**  
 अक्षर लोप 411 3  
 अनुपलब्धता 942 4  
 घटान कर्म 954.6  
 नाश 531 1  
 विलयन 21 26  
 विलोप 824 7  
**लोपन**  
 गोपन 824 1  
 बातिलकरण 338 12  
**लोपना**  
 गोपन करना 824 14  
 घटान करना 954 12  
 बातिल करना 338 27  
 विलुप्त होना 824 17  
**लोपामुद्रा**  
 ऋषि स्त्री सूची 789.25  
**लोपाश**  
 गीदङ्ग 127 75  
 लोमङ्गी 127 79  
**लोपाशी**  
 मादा गीदङ्ग 127 76  
**लोपी**  
 भंजक 539 15  
 विलोपक 824.25  
**लोपना**  
 विलोपक 824 25

**लोप्य**  
 गोपनीय 824 21  
**लोबत**  
 खिलौना 480.1  
**लोबतबाज़**  
 कठपुतली वाला 473 7  
**लोबान**  
*लोबान 274.27 ⇨*  
 शिलाजीत 84.12  
**लोबिया**  
 दलहन सूची 188.7  
*लोबिया 189.33 ⇨*  
**लो ब्यङ्ग प्रेशर (ऑ)**  
 अल्प रुधिर चाप 131.5  
**लोभ**  
 लालसा 359 5  
*लोभ 359 6 ⇨*  
 षड्विकार सूची 812 5  
 षडक्लेश सूची 761 19  
**लोभ आना**  
 लुब्ध होना 359.15  
**लोभक**  
 प्रलोभक 359 32  
**लोभन**  
 आलोचन 359.8  
 दाम नीति 819 5  
 सम्मोहन 367.2  
 स्वर्ण ५ 4  
**लोभना (प्र)**  
 मनसिजा 352 5  
**लोभहीन**  
*लोभहीन 360.15 ⇨*  
 संतोषशील 360.19  
**लोभहीनता**  
*लोभहीनता 360.3 ⇨*  
**लोभित**  
 लुब्ध 359.30  
**लोभी**  
 धन लोलुप 628.26  
 लालसी 359 29  
*लोभी 359.31 ⇨*  
 स्वाद लोलुप 275.19  
**लोम**  
 ऊन 568 9  
 रोआँ 569 4  
 शरीर रोम 135.1  
**लोमकर्ण**  
 खरगोश 127.63  
**लोमङ्गी**  
*लोमङ्गी 127.79 ⇨*  
**लोम रंध**  
 रोम रघ 135.10  
**लोमराजि**  
 पेट पेङ्कू रोम 135.6  
**लोमश**  
 झबरीला 137.26  
 नर भेङ्ग 127 25  
 रोएँदार 569.31

रोमल 135.11  
**लोमश मार्जार**  
 गंध बिलाव 127.58  
**लोमशा**  
 ऋषि स्त्री सूची 789 25  
 मादा गीदङ्ग 127 76  
 लोमङ्गी 127.79  
 लोह कसीस 214.8  
**लोम हर्षक**  
 रोमाचक 382.22  
**लोमांच**  
 रोमांच 382.6  
**लोमांचक**  
 रोमांचक 382.22  
**लोमांचित**  
 रोमांचित 382 21  
**लोमाजिन**  
 फ़र 582.17  
**लोमाली**  
 पेट पेङ्कू रोम 135.6  
**लोमावली**  
 पेट पेङ्कू रोम 135 6  
**लोमाश**  
 गीदङ्ग 127 75  
 लोमङ्गी 127 79  
**लोम**  
 झुमका 228.13  
**लोरी**  
*लोरी 457.42 ⇨*  
**लोल**  
 चंचल 860.24  
 संचल 1037.19  
**लोलक**  
 नथ लटकन 228.17  
 प्रालंब सूची 1024.4  
**लोल दंड**  
 पैँडुलम 50.28  
**लोलन**  
 झूलन 1034 1  
 पैँडुलम गति 1035.9  
 संचलन 1037.4  
**लोललोचन**  
 चंचलनयन 158.22  
**लोललोचना**  
 चंचलनयना 158.23  
**लोला**  
 लक्ष्मी 775.1  
**लोलित**  
 झूलता [झूलती] 1034.21  
 तरंगित 1040.30  
 दोलित 1037.24  
 प्रलंबित 1024.10  
**लोलित [लोलिता]**  
 चंचल 860.24  
 लाका [लाङ्गी] 721.15  
**लोलिनी**  
 व्यभिचारिणी 806.11

लोलुप	लोहा करना	लौंगक्लाथ (अँ)	प्रेमासक्ति 368 8
अति कृपण 639.27	इस्तिरी करना 220.39	लट्ठा 580 38	लगन 493 4
आतुर 498.11	लोहा जंग	लौंग पेच	ललरी 134 12
घटोरा [घटोरी] 181.50	लौह मल 214 6	आभूषण पेच 1016 21	लौआ
भोगलिप्पु 363.17	लोहाभिहार	लौंग देव	धिया 189 19
लालसी 359 29	शस्त्र मार्जन 929 6	लौंग देव 1040.11 ⇨	लौक (अँ)
लोभी 359.31	लोहा: मिश्र धातु	लौंग देव (अँ)	ताला 609 24
स्वाद लोलुप 275.19	इस्पात 93.11	लौंग देव 1040 11	लौकअप (अँ)
लोलुपता	लोहामिष	लौंग शीट	हवालात 868 12
अधिग्रहणशीलता 635.2	लाल मास 206 12	लौंग शीट 472 20 ⇨	लौकर (अँ)
लोलुप पंजा	लोहार	लौंग शीट (अँ)	बँक लौकर 630 7
लोलुप पड़ा 744 5 ⇨	लोहार 565 15 ⇨	लौंग शीट 472 20	लौकिक
लोषान (अँ)	लोहार कर्म	लौंग साइट (अँ)	इहलौकिक 258 13
मरहम 176 21	लोहार कर्म 565 14 ⇨	दूर दृष्टि 282 5	पारपरिक 795 13
लोष्ट	लोहार की स्याही	लौच	पृथ्वीय 9 21
सीमा विहन 1001 15	लौह कसीस 214 8	लौच 1072.22 ⇨	व्यावहारिक 828 9
लोष्ट	लोहारगरी	लौच (अँ)	सामान्य 311 3
ढेला 938.41	लोहार कर्म 565 14	यान अवतारण 1080 8	लौकिक ज्ञान
लोहँडा	लोहारी	लौच 1072 22	लौकिक ज्ञान 305 8 ⇨
तसला 685 9	लोहार कर्म 565 14	लौच करना	लौकिकता
लोह	लोहिका	अवतारण करना 1080 36	औपचारिकता 184 3
धातु 93.1	तसला 685 9	लौच करना	व्यावहारिकता 828 2
लोहा 93 7	लोहित	जलावतारण करना 1080 37	लौकिक प्रेम
लौह 93 17	ब्रह्मपुत्रा 20 17	लौचिंग (अँ)	मानव प्रेम 368 7
लोहक	रुधिर 131 1	जल अवतारण 1080 9	लौकिक राज्य
मेगनीज़ 94 12	लाल 289 60	लौचिंग बेस	इहलोक तत्र 881 15
लोहञ्जी	लोहितांग	लौचिंग बेस 1069.23 ⇨	लौकिक विद्या
उत्सवाग्नि 106.2	मूल ग्रह 7 7	लौचिंग पैड (अँ)	उपवेद 740 36
लोहञ्जी 57.42 ⇨	लोहिता	लौचिंग बेस 1069 23	वेद वेदांग 740 35
लोह पथ	अग्नि जिह्वा सूची 106 10	लौडा	लौकिक शक्ति
रेल मार्ग 1066 14	लोहिताक्ष	आवासीय सेवक 651 4	अपरा शक्ति 776 20
लोह प्रतिमा	लाल पासा 479 23	लड़का 230 25	लौकिक (अँ)
लौह मूर्ति 406 14	लोहितात्मा	लौडा [लौडी]	पैडेट 228 50
लोह बंदा	शिव 767 1	नगण्य व्यक्ति 853.4	लौकी
धातु मँकी लाठी 923 10	लोहितायस	लौडिया	धिया 189 19
लोह मणि	ताँबा 94 8	आवासीय सेविका 651 5	साग सब्जी सूची 189 4
घुंभक पत्थर 1050 8	लोहिताम्ब	लौडिया	लौक्य
लोह राजक	अग्नि 106 1	नवयुवती 231 3	सामूहिक 690 13
घाँदी 95.3	शिव 767.1	लौडिया	लौंग (अँ)
लोह संकर	लोहितिमा	लड़की 230 26	लकड़ा 597 10
मिश्र धातु 93.3	लालिमा 289 18	लौडी	लौज
लोह सार	लोहिया	अतःपुर दासी 651 11	बादाम 191 10
इस्पात 93 11	लौह 93 17	दासी 651 10	लौज (अँ)
लोहींग	लोही	लौकी	लौजिंग हाउस 1090 32
धातु मँकी लाठी 923.10	सूर्य लालिमा 287.13	नवयुवती 231 3	लौजिंग हाउस
लोहींगी	लौ हील्स (अँ)	लौडी	लौजिंग हाउस 1090.32 ⇨
धातु मँकी लाठी 923.10	नीची एकी 588.29	लड़की 230-26	लौट
लोहा	लोहू	सेविका 651.26	पुनरागमन 1093 5
अष्टधातु सूची 93.6	रुधिर 131.1	लौव ७	लौट (अँ)
आयुष 922.1	लोह्य	मल मास 43.19	खेप 686 3
इस्तिरी 220.20	लौह 93 17	लौ	थोक 686.5
क्षमता 487.7	लौ	अग्नि ज्वाला 106.8	लौटना
तलवार 924 7	पर्यंत 39.12	अनुरक्ति भाव 752 11	दिशा बदलना 1098.18
प्रताप 849.5	सादृश्य: उक्ति सूची 309.26	आवेश 371 1	पलटना 1027 14
प्रतिरोध 915.1	लौंग	आसक्ति 365.1	पीछे जाना 1095.12
लोहा 93.7 ⇨	पान मसाला सूची 213.20	कान ललरी 134.13	पीछे हटना 916.15
शक्ति 487.1	लौंग 228.24 ⇨	तल्लीनता 331.6	पुनरावर्तित होना 73.3
	लौंग 281.30 ⇨	प्रेम 368.1	फिर आर्षा 1093 10

## लौटनियॉ

लुङकना 1031.18  
**लौटनियॉ**  
 कलाबाजी 1086 14  
**लौटपटा**  
 पटाफेर 800.21  
**लौट पलट कर लौचना**  
 विमरॉ करना 330 16  
**लौट पलट कर होना**  
 आवागमनग्रस्त होना 246.9  
**लौट फिर कर**  
 पुनः 73.5  
**लौट फेर**  
 उधल पुथल 532 4  
**लौटरी**  
 लाटरी चयन 1009.5  
**लौटरी चयन**  
 लाटरी चयन 1009.5  
**लौटा [लौटी]**  
 गृहागत 1100 7  
 पुनरागत 1093 16  
 पुनरानीत 1053.15  
 पुनरावर्तित 73.4  
 पुनस्थापित 1036 15  
 प्रतिनोदित 1051 35  
**लौटाई**  
 प्रतिप्रदान 638.3  
 प्रतिप्रेषण 1054 4  
**लौटाक**  
 जाकड पर खरीदा 660 19  
**लौटाना**  
 लौटाना 1054.12 ⇨  
 वापस देना 638.11  
 वापस लाना 1053 7  
**लौटाना**  
 पुनरानीत 1053.15  
**लौटाना [लौटाई]**  
 प्रतिप्रेषित 1054.25  
**लौटा लाना**  
 वापस लाना 1053.7  
**लौटाव**  
 पश्चगति 1095 5  
 प्रतिप्रदान 638 3  
 प्रतिप्रेषण 1054 4  
**लौडी**  
 आवासीय सेविका 651.5  
**लौन**  
 नमक 279 5  
**लौनहार**  
 फ़सल काटने वाला 548.19  
**लौना**  
 जलावन 110.4  
**लौनी**  
 फ़सल कटाई 548 18  
 मक्खन 196.6  
**लौनी (अँ)**  
 दर्शक प्रतीकालय 471.3  
**लौरी (अँ)**  
 बस 1071.80

**लौलीन**  
 तल्लीन 331 14  
 प्रेमासक्त 368 21  
**लौलीनता**  
 तल्लीनता 331 6  
**लौलीपीप**  
 लौलीपीप 203.56 ⇨  
**लौलीपीप (अँ)**  
 लौलीपीप 203.56  
**लौल्य**  
 लालसा 359.5  
**लौह**  
 धातवीय 93 16  
 लाल 289 60  
 लोहा 93.7  
 लौह 93.17 ⇨  
**लौह कंटक**  
 लौह कंटक 1016.34 ⇨  
**लौह कंटक गुच्छा**  
 लौह कंटक गुच्छा 1016.35 ⇨  
**लौह कंटक गोली**  
 लौह कंटक गुच्छा 1016.35  
**लौह कसीस**  
 लौह कसीस 214.8 ⇨  
**लौहकार**  
 लोहार 565 15  
**लौह कील**  
 लौह कील 1016.14 ⇨  
**लौह चुंबक**  
 लौह चुंबक 1050 9 ⇨  
**लौह दूर्ण**  
 लौह दूर्ण 93.10 ⇨  
**लौह टोपी**  
 लौह शिर कवच 921.6  
**लौह पथ**  
 रेल मार्ग 1066.14  
**लौह बंध**  
 हथकड़ी 868.28  
**लौह मल**  
 लौह मल 214.6 ⇨  
**लौह मूर्ति**  
 लौह मूर्ति 406.14 ⇨  
**लौह युग**  
 कलियुग 40.15  
**लौह शंकु**  
 छोटा भाला 925.5  
**लौह शिर कवच**  
 लौह शिर कवच 921.6 ⇨  
**लौह शिरस्त्राण**  
 लौह शिर कवच 921.6  
**लौह स्तंभ**  
 लौह स्तंभ 255.14 ⇨  
**लौहित**  
 लाल 289 60  
 लौह 93 17  
 शिवः त्रिशूल 767 11  
**लौहित्य**  
 ब्रह्मपुत्रा 20.17

**लहासा**  
 तिब्बत राजधानी 27.8  
**लहोत्से**  
 भारत उपमहाद्वीप पर्यंत सूची 17.1

## वु

**वक**  
 वक्र 974.16  
**वकिम**  
 बाँका [बाँकी] 860.23  
 वक्र 974 16  
**वकि**  
 कुंडा 1016.28  
 प्रालंबन छल्ला 1016.31  
**वंग**  
 पश्चिम बंगाल 28 48  
 राँगा 94 13  
**वंगज**  
 पीतल 94 10  
**वंग मल**  
 सीसा 94 14  
**वंगारि**  
 हरताल 92 13  
**वंगीय**  
 बांग्लादेशीय 27 27  
**वंचक**  
 गीदड 1:7 75  
 छली 827 24  
 निषेध कर्ता 880.11  
 प्रवचक 635.26  
 बहानेबाज़ 495.15  
 बेईमान 816 5  
**वंचकता**  
 कुटिलता 818.3  
**वंचन**  
 छीन 635.7  
 निषेध 880.1  
 प्रवचन 635.9  
**वंचनशीलता**  
 सहज विश्वासशीलता 340.4  
**वंचना**  
 छल 827 7  
 दमित आकांक्षा 352.11  
 बंधक द्रोह 633.23  
 विश्वासघात करना 827.13  
**वंचयिता**  
 परित्यागी 1003 6  
 प्रवचक 635.26  
**वंचित**  
 उत्तराधिकार वंचित 623.25  
 छलित 827.23  
 प्रवंचित 635.25  
 रहित 1007.3  
**वंचित आकांक्षा**  
 दमित आकांक्षा 352.11  
**वंचित करना**  
 प्रवंचित करना 635.15

**वंचिता (प्र)**  
 दमित आकांक्षा 352.11  
**वंचुल**  
 अशोक 13.4  
 बेंत 923.8  
**वंचुलक**  
 पनतिरी 126.49  
**वंच**  
 अविवाहित पुरुष 236.17  
**वंचन**  
 उत्तराधिकार विभाजन 623.6  
**वंचाल**  
 खंता 559 11  
**वंचर**  
 बलि रज्जु 754.6  
 -वंच [ -वंची ]  
 सहितः प्रत्यय सूची 1006 5  
 -वंचता  
 सहितता 1006.1  
**वंचक**  
 पूजक 751 3  
 प्रशंसक 841.31  
 बौद्ध भिक्षु 790 27  
**वंचन**  
 अभिनंदन 854 8  
 आरती वंदन 1059.17  
 नमस्कार 1060 12  
 नवधा भक्ति सूची 752.6  
 पूजन 751.2  
 प्रशंसन 841 4  
 प्रार्थना 350.4  
**वंचन माला**  
 वंदनवार 1059.8  
**वंचनवार**  
 वंदनवार 1059.8  
**वंचना**  
 आरती गीत 749.29  
 नमाज़ः सिजदा 751.17  
 पूजा 751.1  
 प्रशंसा गीत 841.6  
 प्रार्थना 350.4  
 बोधशोषचार सूची 750 4  
 स्तोत्र 741 16  
**वंचनी**  
 आरती गीत 749.29  
**वंचनीय**  
 पूजनीय 751.24  
 सम्मान्य 854.20  
**वंचित**  
 अभिवाहित 1060.27  
 सम्मानित 854.19  
**वंचित [वंचिता]**  
 पूजित 751.23  
**वंचिता**  
 प्रशंसक 841.31  
 बंदीजन 841.15  
**वंची**  
 प्रशंसक 841.31



बंदीजन 841.15  
 बंदीजन  
 बंदीजन 841.15  
 बंदे  
 जयकार 912.3  
 नमस्कार 1060.12  
 बंध  
 पूजनीय 751.24  
 सम्मान्य 854.20  
 बंध्य  
 अनुर्वर (भूमि) 552.17  
 असफल 513.4  
 नपुंसक 238.18  
 फलहीन 116.12  
 रचनाहीन 528.5  
 बंध्य 238.15 ⇨  
 बंध्यीकृत 238.17  
 बंध्यकरण  
 बंध्यीकरण 238.7  
 बंध्यता  
 रचनाहीनता 528.2  
 बंध्यता 238.3 ⇨  
 बंध्यता (दे.)  
 निस्संतानता 240.1  
 बंध्यफल  
 अफलित 118.17  
 फलहीन 116.12  
 बंध्या  
 बंध्या 238.16 ⇨  
 बंध्या बुद्धि  
 असंभव घटना: उपमान सूची 75.17  
 बंध्या पुत्र  
 असंभव घटना: उपमान सूची 75.17  
 बंध्यीकरण  
 बंध्यीकरण 238.7 ⇨  
 बंध्यीकृत  
 बंध्यीकृत 238.17 ⇨  
 बंधा  
 अक्ष दंड 1077.12  
 कोटि 938.1  
 जाति 730.1  
 नलाकार अस्थि 133.3  
 नृजाति 730.14  
 बौंस 597.8  
 राजवंश 727.5  
 रीढ़ 133.14  
 बंधा 727.1 ⇨  
 बंधा आरंभ  
 बंधा प्रवर्तक 727.7  
 बंधा कपूर  
 बौंस निर्यास 84.10  
 बंधाकर  
 पूर्वज 727.20  
 बंधा कलंक  
 कुल कलंक 726.19  
 बंधा का  
 बंधीय 727.29

बंधा कुंज  
 बंधी वन 12.26  
 बंधा क्रम  
 बंधा क्रम 727.12 ⇨  
 बंधा क्रम से  
 अनुवंशतः 727.44  
 बंधा क्रमागतता  
 आनुवंशिकता 727.17  
 बंधा क्षीरी  
 बौंस निर्यास 84.10  
 बंधागत  
 आनुवंशिक 727.39  
 पैतृक 727.43  
 बंधागतता  
 आनुवंशिकता 727.17  
 दायगातता 623.19  
 बंधा गोपना  
 बंधा रक्षक 727.34  
 बंधा चरित  
 बंधा परिचय 727.11  
 बंधा चितक  
 वंशावली निर्माता 727.14  
 बंधाच्छेता  
 अंतिम बंधज 727.25  
 बंधा नाशक 727.35  
 बंधाज  
 उत्तराधिकारी 623.2  
 बंधाज 727.24 ⇨  
 संतान 718.1  
 बंधाज [बंधाज]  
 बंधाज 727.24  
 बंधीय 727.29  
 बंधाजता  
 उत्तर कालीनता 60.6  
 बंधाजता 727.23 ⇨  
 बंधाजहीन  
 उत्तराधिकारीहीनता 623.26  
 बंधाजहीन 727.41 ⇨  
 बंधाजहीनता  
 उत्तराधिकारीहीनता 623.18  
 बंधाजहीनता 727.26 ⇨  
 बंधा जीन  
 बंधाव्य 130.8  
 बंधासः  
 अनुवंशतः 727.44  
 बंधा तालिका  
 वंशावली 727.13  
 बंधा वीप  
 कुल गौरव 726.18  
 बंधा वेव  
 कुल देवता 772.24  
 बंधा वैधता  
 कुल देवता 772.24  
 बंधा देवी  
 गृह देवी 772.26  
 बंधात्वर  
 पुत्र 718.3  
 बंधा रक्षक 727.34

संतान 718.1  
 संतान समष्टि 718.2  
 बंधात्वर [बंधात्वर]  
 बंधाज 727.24  
 बंधा धर्म  
 कुल परंपरा 795.4  
 बंधाधारी  
 लाठीधारी 930.17  
 बंधा रक्षक 727.34  
 बंधानष्ट  
 बंधानष्ट 727.42 ⇨  
 बंधा नाम  
 बंधा नाम 315.7 ⇨  
 बंधा नाश  
 बंधा नाश 727.9 ⇨  
 बंधा नाशक  
 बंधा नाशक 727.35 ⇨  
 बंधा नाश होना  
 बंधा नाश होना 727.28 ⇨  
 बंधा नाशी  
 बंधा नाशक 727.35  
 बंधापति  
 गृहपति 235.5  
 बंधा पत्रक  
 सरकंडा 597.11  
 बंधा परंपरा  
 कुल परंपरा 795.4  
 बंधा क्रम 727.12  
 बंधा परंपरा: कड़ी  
 पीढ़ी 727.27  
 बंधा परिचय  
 बंधा परिचय 727.11 ⇨  
 बंधा पात्र  
 बौंस बेत. टोकरा 677.4  
 बंधा प्रवर्तक  
 बंधा प्रवर्तक 727.7 ⇨  
 बंधा प्रवर्तन  
 बंधा प्रवर्तन 727.6 ⇨  
 बंधा बंधु  
 स्वजन 725.1  
 बंधा भूल  
 ईश्वर भूल 112.13  
 बंधा रक्षक  
 बंधा रक्षक 727.34 ⇨  
 बंधा राज  
 लग्ना 563.6  
 बंधा रीति  
 कुल परंपरा 795.4  
 बंधा रक्षणी  
 पैतृक संपत्ति 624.7  
 बंधा लौचन  
 बौंस निर्यास 84.10  
 बंधा वर्जन  
 बंधानुकीर्तन 727.15  
 बंधावर्ती  
 सहबंधी 727.30  
 बंधा वर्धक  
 बंधा वर्धक 727.33 ⇨

बंधावर्धन  
 बंधा वर्धक 727.33  
 बंधावर्धक 727.36  
 विष्णु 768.1  
 बंधा बाले  
 स्वजन 725.1  
 बंधा विस्तार  
 बंधा वृद्धि 727.8  
 बंधा वृक्ष  
 वंशावली 727.13  
 बंधा वृद्धि  
 बंधा वृद्धि 727.8 ⇨  
 बंधा वृद्धि करना  
 जनन करना 243.8  
 बंधाव्य  
 बंधाव्य 130.8 ⇨  
 बंधा शर्करा  
 बौंस निर्यास 84.10  
 बंधा शाखा  
 बंधा शाखा 727.2 ⇨  
 बंधा संस्थापक  
 बंधा प्रवर्तक 727.7  
 बंधा से  
 अनुवंशतः 727.44  
 बंधा स्थापना  
 बंधा प्रवर्तन 727.6  
 बंधाहीन  
 अकुलीन 728.16  
 अज्ञातवंश 727.38  
 निस्संतान 240.9  
 बंधाहीनता  
 निस्संतानता 240.1  
 बंधागत  
 आनुवंशिक 727.39  
 दायगात 623.27  
 बंधागतता  
 आनुवंशिकता 727.17  
 बंधानुकीर्तक  
 बंधानुकीर्तक 727.16 ⇨  
 बंधानुकीर्तन  
 बंधानुकीर्तन 727.15 ⇨  
 बंधानुक्रमता  
 आनुवंशिकता 727.17  
 बंधानुगत  
 पारंपरिक 795.13  
 बंधानुगतता  
 आनुवंशिकता 727.17  
 पारंपरिकता 795.2  
 बंधानुचरित  
 बंधा परिचय 727.11  
 बंधानुबंधा  
 बंधा 727.1  
 बंधावली  
 बंधावली 727.13 ⇨  
 बंधावली उल्लेख  
 बंधानुकीर्तन 727.15  
 बंधावली निर्माता  
 बंधावली निर्माता 727.14 ⇨

## वंशिक

वंशिक  
सहवशी 727.30  
वंशिकता  
आनुवंशिकता 727 17  
वंशिका  
बॉसुरी 461.63  
वंशी  
कुलीय 726 17  
धमनी 131 11  
बॉसुरी 461 63  
वशीय 727 29  
सहवशी 727 30  
वंशी तान  
वंशी तान 458.16 ⇨  
वंशीधर  
कृष्ण 771 1  
बॉसुरी वादक 461 64  
वंशीन (म)  
वशव्य 130 8  
वंशीय  
कुलीय 726 17  
वशीय 727 29 ⇨  
सहवशी 727.30  
वंशी वट  
वंशी वट 13.19 ⇨  
वंशी वन  
वंशी वन 12.26 ⇨  
वंशी वादक  
बॉसुरी वादक 461.64  
वंशी वादन मुद्रा  
त्रिमंगी मुद्रा 1029 5  
वंशोद्भव  
वशज 727 24  
वशीय 727 29  
वंशोद्भवता  
उच्च कुलीनता 728 3  
वंशोद्भवा  
पुत्री 718 10  
बॉसुरी 84 10  
वंशीभ्रति  
वंशीभ्रति 727 10 ⇨  
वंशीभ्रायक  
वंशीभ्रायक 727.36 ⇨  
वंश्य  
कुलीय 726 17  
पूर्वज 727.20  
व  
और 945 10  
वक  
आटि 126 13  
प्रवचक 635.26  
वक्रअत  
महत्त्व 852 1  
वक्रत  
प्रताप 849 5  
वक ध्यान  
धर्म पाखंड 825 3

वक ध्यानी  
कण्टपूर्ण सरल 818.6  
धर्म पाखंडी 825.4  
वकारि  
भीम 771 7E  
वकालत  
प्रतिपादन 326 1  
मडन 326 2  
समर्थन 885 7  
वकी  
पूतना 784 25  
वकील  
अधिकार प्रदत्त व्यक्ति 897.9  
ईसा 791.8  
प्रतिनिधि सूची 888 27  
प्रतिपादक 326 16  
मडन कर्ता 326 17  
राजदूत 443 10  
वकील 874.26 ⇨  
वकुल  
मीलसिरी 13 20  
वक्रत  
अवसर 70 1  
उपयुक्त अवसर 70 3  
ऋतु 51 13  
काल 36 1  
घड़ी समय 50 3  
नियत काल 39 1  
प्रतिष्ठा वृद्धि 849 3  
मोहलत 39 5  
युग 40 1  
वर्तमान काल 36 13  
विश्राम काल 494 2  
वक्रत का तोता  
काल पक्षी 36 7  
वक्रत का तोता उड़ जाना  
काल क्षेप होना 36 15  
वक्रत का दरिया  
कालचक्र 36 3  
वक्रत का पाबंद  
समय पालक 61 6  
वक्रत का पाबंद होना  
समय पालन करना 61.4  
वक्रत को ग़रेबान से पकड़ना  
अवसर उपभोग करना 70 11  
वक्रत गुजरना  
काल क्षेप होना 36 15  
वक्रत: गीर पाबंदी  
समय अपालन 62 2  
वक्रतन ऋद्धन्तन  
कभी कभी 36.25  
वक्रत पर  
उपयुक्त अवसर पर 70.16  
समयानुसारतः 61.7  
वक्रत पर काम आना  
निस्वार्थ मित्र होना 705.20  
वक्रत पर काम न आना  
सस्वार्थ मित्र होना 705.21

वक्रत पर बदल जाना  
अवसरवादी होना 827.12  
वक्रत पर गूँह फेरना  
सस्वार्थ मित्र होना 705 21  
वक्रत: पाबंदी  
समय पालन 61.2  
वक्रत बेवक्रत  
कभी कभी 36.25  
वक्रत रहते  
समयानुसारतः 61 7  
वक्तव्य  
उक्ति 434 1  
बयान 876 8  
भाषण 430.8  
वक्तव्य 441 12 ⇨  
व्याहृति 741.17  
समाचार विज्ञप्ति 445.21  
वक्तव्य दाता  
प्रवक्ता 441 25  
वक्तव्य देना  
वक्तव्य देना 441 17 ⇨  
वक्ता  
कथन कर्ता 430 18  
कथा उद्घोषक 467.3  
कथा वाचक 399 11  
घोषक 441.23  
प्रवक्ता 441.25  
भाषण दाता 430 23  
वर्णन कर्ता 449 27  
विद्वान व्यक्ति 319.2  
सबोधन कर्ता 430.26  
वक्ता: गृह  
वक्ता गृह 601 2 ⇨  
वक्ता द्वारा  
स्वकृततः 505 35  
वक्रती  
अवधियुक्त 39 9  
अवसरानुकूल 70 14  
अवसरीय 70.13  
ऋतु कालीन 51.16  
कालीन 36.16  
युगीन 40 16  
वक्रती दोस्त  
सस्वार्थ मित्र 705 8  
वक्रती दोस्ती  
सस्वार्थ मित्रता 705 7  
वक्तुकाम  
अभिव्यक्ति इच्छुक 428.19  
वक्तुक  
भाषण दाता 430 23  
वार्तालाप कुशल 435.25  
वक्तुता  
भाषण 430.8  
वक्तव्य 441 12  
वक्तुत्व  
वक्तव्य 441.12  
वक्त्र  
आयाम 964 1

मुख विवर 143.1  
वक्त्र पाणि  
नेपथ्य पूर्वर्ग सूची 468 18  
वक्रक  
धर्मार्थ दान 641.8  
वक्रकनामा  
दान पत्र 641.4  
वक्रका  
अंतरिम काल 60 3  
नियत काल 39 1  
वक्र  
अर्थ चंद्रमा 8.6  
अवनमित 1025 8  
कठिन 519 18  
कुटिल 818 7  
कूट 823.12  
कूटनीतिज्ञ 819 16  
कूट युक्ति कर्ता 819 17  
कोणयुक्त 970 12  
छलपूर्ण 827 22  
नदी मोड़ 21 19  
वक्र 974 16 ⇨  
वक्रगामी 1098 25  
विकर्णयुक्त 1026 11  
वक्र उत्तर  
वक्र उत्तर 334 3 ⇨  
वक्र करना  
वक्र करना 974.14 ⇨  
वक्र कुपाण  
बॉक 924 15  
वक्र खड़ग  
वक्र तलवार 924 9  
वक्रगति  
मंगल ग्रह 7.7  
वक्र गति  
वक्र गति 1098.9 ⇨  
वक्रगति  
वक्रगामी 1098.25  
वक्रगामी  
वक्रगामी 1098 25 ⇨  
वक्रचंचु  
तोता 126.44  
वक्र जाना  
वक्र जाना 1098.19 ⇨  
वक्रतः  
वक्रतः 974.24 ⇨  
वक्र तलवार  
वक्र तलवार 924.9 ⇨  
वक्रता  
कूट युक्ति 819.8  
मोड़ 974.10  
वक्रता 974.1 ⇨  
वक्रांगता 153.5  
विकर्णता 1026.5  
वक्रता (दे.)  
अवनमितता 1025.4  
वक्रपुंड  
गणेश 773.22

<b>वक्रवन्द्य</b>	<b>वक्ष</b>	<b>वचन दत्त</b>	<b>वज्रनकाश</b>
सूअर 127.81	मन 351 2	<i>वचन दत्त 339.40 ⇨</i>	तीलने वाला 962.66
<b>वक्रधर</b>	<i>वक्ष 146.1 ⇨</i>	<b>वचन दाता</b>	<b>वज्रनदार</b>
शिव 767 1	<b>वक्ष आवरण</b>	<i>वचन दाता 339.41 ⇨</i>	महत्त्वपूर्ण 852 8
<b>वक्रधी</b>	<i>वक्ष आवरण 585 6 ⇨</i>	<b>वचन देना</b>	<b>वज्रनी</b>
कुटिल 818 7	<b>वक्ष कवच</b>	<i>वचन देना 339.27 ⇨</i>	अतिभारग्रस्त 963 15
दुराशय 818.9	<i>वक्ष कवच 921 9 ⇨</i>	<b>वचन पदु</b>	प्रतिष्ठित 849.15
बेईमान 816.5	<b>वक्षज</b>	वार्तालाप कुशल 435 25	भारयुक्त 963.11
<b>वक्रपुच्छ</b>	क्षत्रिय 731 19	<b>वचन पत्र</b>	महत्त्वपूर्ण 852.8
कुत्ता 127 71	<b>वक्ष त्राण</b>	अनुबंध पत्र 339.2	<b>वज्रनी ढंड</b>
<b>वक्रपुष्प</b>	वक्ष कवच 921.9	शपथ पत्र 339 21	ढंड सूची 485.10
पलाश 13 13	<b>वक्ष स्थल</b>	<b>वचन पालक</b>	<b>वज्रनीपन</b>
<b>वक्रबुद्धि</b>	मन 351 2	<i>वचन पालक 339.43 ⇨</i>	भारग्रस्तता 963.6
बेईमान 816 5	वक्ष 146.1	<b>वचन पालन</b>	<b>वज्रनी बैठक</b>
<b>वक्र भाषण</b>	<b>वक्षीय</b>	<i>वचन पालन 339.16 ⇨</i>	बैठक सूची 485.12
कुटिल भाषण 432 5	<i>वक्षीय 146 12 ⇨</i>	<b>वचन पालना</b>	<b>वज्रह</b>
<b>वक्रभाषी</b>	<b>वक्षोरुह</b>	<i>वचन पालना 339.28 ⇨</i>	कारण 507.3
कुटिलभाषी 432 13	स्तन 146 6	<b>वचन पूरा करना</b>	<b>वज्रावत</b>
<b>वक्रमति</b>	<b>वगरना</b>	वचन पालना 339.28	मंत्रालय 889.17
कुटिल 818 7	अन्यथा 514 25	<b>वचन पूर्ति</b>	मन्त्रीत्व 889 19
बेईमान 816 5	बल्कि 507 18	वचन पालन 339 16	मंत्री मंडल 889 16
<b>वक्र रेखा</b>	<b>वगलामुखी</b>	<b>वचनपूर्वक</b>	<b>वजाहत</b>
धुमावदार रेखा 968 14	वगलामुखी 774.55	वचनबद्धतः 339.52	महानता 839 1
<b>वक्रहीन</b>	<b>वगीरा</b>	<b>वचनबद्ध</b>	<b>वज्रीका</b>
अवक्र 974.17	इत्यादि 945 12	<i>वचनबद्ध 339.39 ⇨</i>	छात्र वृत्ति 641.18
<b>वक्रहीन करना</b>	<b>वचन</b>	<b>वचनबद्धतः</b>	वृत्ति 641 17
अवक्र करना 974 15	अभिव्यक्ति 428.1	<i>वचनबद्धतः 339.52 ⇨</i>	<b>वज्रीकावार</b>
<b>वक्रहीनतः</b>	आज्ञा 347.1	<b>वचन भंग</b>	वृत्ति प्राप्ता 641.32
सीधे 1098 32	कथन 430 1	<i>वचन भंग 338.16 ⇨</i>	<b>वज्रीका बंधना</b>
<b>वक्रहीनता</b>	धर्म आदेश 742 7	<b>वचन भंग करना</b>	वृत्ति देना 641.21
अवक्रता 974.2	परामर्श 332 1	वचन तोड़ना 338 30	<b>वज्रीर</b>
<b>वक्रांग</b>	प्रतिज्ञा 339.17	<b>वचन भंग कर्ता</b>	परामर्शक 332.14
<i>वक्रांग 153 22 ⇨</i>	बाइबिल 739 8	<i>वचन भंग कर्ता 338.48 ⇨</i>	मंत्री 889 18
<b>वक्रांगता</b>	<i>वचन 339.15 ⇨</i>	<b>वचनविद्यग्ध</b>	<b>वज्रीरे आज्ञम</b>
<i>वक्रांगता 153.5 ⇨</i>	वाक्य 424 1	वार्तालाप कुशल 435.25	प्रधान मंत्री 889.21
<b>वक्राकार</b>	विवाह प्रतिज्ञा 799.40	<b>वचन से</b>	<b>वजू</b>
वक्र 974.16	व्याहृति 741 17	वचनबद्धतः 339.52	नमाज़ वुजू 751 15
<b>वक्रावर्तक</b>	शब्द वचन 425.44	<b>वचनीय</b>	<b>वजूद</b>
प्रकाश वक्रावर्तक 288.15	संकल्प 500.1	कथनीय 430 17	अस्तित्व 246.1
<b>वक्रावर्तन</b>	साष्टांग देहवतः अंग सूची 1080.9	<b>वचसांपत्ति</b>	जीवन 246 6
प्रकाश वक्रावर्तन 288.7	सीख 332.6	वृहस्पति ग्रह 7.6	<b>वज्र</b>
<b>वक्रावर्तित (प्रकाश)</b>	सुक्ति 434.2	<b>वचस्वी</b>	तल्लीनता 331.6
<i>वक्रावर्तित (प्रकाश) 288.14 ⇨</i>	<b>वचन अव्यक्त</b>	वार्तालाप कुशल 435.25	<b>वज्र</b>
<b>वक्रै</b>	<i>वचन अव्यक्त 338.47 ⇨</i>	<b>वचोविद</b>	अस्थि 133 1
कुटिलभाषी 432.13	<b>वचन अद्यान</b>	वार्तालाप कुशल 435.25	आधार स्तंभ 607.8
<b>वक्रैमा</b>	<i>वचन अद्यान 338.15 ⇨</i>	<b>वच्छल</b>	इंद्र वज्र 928 8
वक्रता 974.1	<b>वचन अपालन</b>	वात्सल्यपूर्ण 721 12	उल्का खंड 3.7
<b>वक्रिल</b>	वचन भंग 338.16	<b>वज्रन</b>	ओला 54.15
वक्र 974.18	<b>वचन अपूर्ति</b>	छंद 452.1	कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369.8
<b>वक्रि</b>	वचन भंग 338.16	छंद माप 452.37	गुल्ले: गोली 928.4
छली 827.24	<b>वचन का पक्का</b>	छंद संतुलन 452.33	दिव्यास्त्र सूची 928.2
वक्रगामी 1098.25	दृकप्रतिज्ञा 339.45	वाट 962.27	दृक्काय 160.12
<b>वक्रोक्तिवाच</b>	<b>वचन ग्रहीता</b>	भार 963.1	निर्दय 835.10
हिंदी काव्य सिद्धांत सूची 453.12	<i>वचन ग्रहीता 339.42 ⇨</i>	भार माप 962.1	प्राण 99.1
<b>वक्रोत्तर</b>	<b>वचन तोड़ना</b>	महत्त्व 852.1	बरना: वज्र 559.50
वक्र उत्तर 334.3	प्रतिज्ञा भंग करना 338.31	लाद 1061.5	भाला 925.4
<b>वक्रोष्ठिका</b>	<i>वचन तोड़ना 338.30 ⇨</i>	<b>वज्रन करना</b>	मेघ विद्युत 55.9
मुस्कुराहट 384.5		तीलना 962.63	वज्रधी 302 9

## वज्रक

विष्णुपद मूर्ति 748.8  
 हीरा 96.28  
 वज्रक  
 हीरा 96.28  
 वज्र कालिका  
 माया देवी 793.13  
 वज्र कोष्ठ  
 र्द्रांग रूम 630.8  
 वज्र खंड  
 बजरी 938.44  
 वज्र गोप  
 बीर बहुटी 122.32  
 वज्र घूर्ण  
 सीमेंट 599.35  
 वज्रतंतु  
 कौयर 589.6  
 वज्रकुंड  
 गणेश 773.22  
 वज्रदंत  
 घृहा 127.60  
 सूअर 127.81  
 वज्रधर  
 इंद्र 773.5  
 उल्लू 126.14  
 बोधिसत्व सूची 793.16  
 वज्रधारी 928.10  
 वज्रधारी  
 वज्रधारी 928.10 ⇨  
 वज्रधी  
 वज्रधी 302.9 ⇨  
 वज्रनख  
 नृसिंह अवतार 769.20  
 वज्रनाभ  
 कृष्ण-धर 771.16  
 वज्रपाणि  
 इंद्र 773.5  
 बोधिसत्व सूची 793.16  
 ब्राह्मण 731.13  
 वज्रपात  
 उल्का पात 3.8  
 महा संकट 909.2  
 विद्युत पात 55.11  
 वज्रबाहु  
 रुद्र 767.34  
 वज्र भणि  
 यशब 96.23  
 हीरा 96.28  
 वज्र मानव  
 वज्र मानव 128.7 ⇨  
 वज्रमुष्टि  
 पहलवान 486.2  
 वज्र मूर्च्छ  
 वज्रधी 302.9  
 वज्रयान  
 बौद्ध संप्रदाय सूची 737.15  
 वज्रल  
 अस्थियुक्त 133.21

वज्र लेप  
 सीमेंट 599.35  
 वज्र बटी  
 बाजीगर: गोटी 473.20  
 वज्र बाराही  
 माया देवी 793.13  
 वज्र बीर  
 महाकाल 773.40  
 वज्रसेन  
 बोधिसत्व सूची 793.16  
 वज्रहस्त  
 मरुत 781.1  
 वज्रहृदय  
 कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369.8  
 वज्रांग  
 दृढ़काय 160.12  
 हनुमान 781.19  
 वज्रा  
 दुर्गा 776.7  
 वज्राकर  
 रत्न खान 92.15  
 वज्राघात  
 विद्युत पात 55.11  
 वज्राचार्य  
 लामा 744.41  
 वज्राभ  
 उपल 96.8  
 वज्रायुध  
 इंद्र 773.5  
 इंद्र वज्र 928.8  
 वज्रायुध मानव  
 वज्र मानव 128.7  
 वज्राशानि  
 इंद्र वज्र 928.8  
 वज्रासन  
 गीतम बुद्ध 793.1  
 बुद्ध: समाधि शिला 793.6  
 योग आसन सूची 756.19  
 वज्री  
 इंद्र 773.5  
 खनिज रेत 100.2  
 बौद्ध भिक्षु 790.27  
 वज्रीय  
 अस्थीय 133.20  
 पाषाणीय 99.15  
 बट  
 अलबेट 975.10  
 गोटी 479.1  
 गोली 977.4  
 नगर कृष्ण सूची 13.2  
 बरगद 13.16  
 बटक  
 बका 200.21  
 बटवासी  
 यक्ष 779.1  
 बट कृष्ण  
 बरगद 13.16

बट कृष्ण जटा  
 बटकृष्ण जटा 112.18  
 बटकृष्ण जटा  
 बटकृष्ण जटा 112.18 ⇨  
 बटाभ्रय  
 कुबेर 779.4  
 बटिका  
 बटी 938.45  
 बटी  
 टिकिया 977.13  
 बटी 938.45  
 भौंग: गोली 210.2  
 रस्सी 570.5  
 बटी 178.25 ⇨  
 वर्तुल पिंड 976.4  
 बट्टक  
 बाट 962.27  
 बड  
 राग रागिनी सूची 457.24  
 बडवा  
 मादा घोडा 127.36  
 बडवानल  
 बडवा दीप्ति 287.18  
 बडवा मुख  
 शिव 767.1  
 बडा  
 बटी 938.45  
 बडा 200.21  
 बाट 962.27  
 बडिरा  
 मत्स्य आखेट: काँटा 252.17  
 हुक 1016.32  
 बणिक  
 विक्रेता 661.2  
 व्यापारी 657.2  
 व्यापारी वैश्य 731.26  
 बणिक कटक  
 सार्थ 657.13  
 बणिक कर्म  
 विपणन 658.1  
 बणिकीय  
 वैश्यीय 731.37  
 बतंस  
 मुकुट 584.14  
 -बत [-बती]  
 सहित: प्रत्यय सूची 1006.5  
 बतन  
 स्वदेश 34.12  
 बतन परस्त  
 राष्ट्रनिष्ठ 826.12  
 बतन परस्ती  
 राष्ट्र निष्ठा 826.5  
 बतनी  
 देशीय 34.17  
 स्वदेश वासी 34.21  
 स्वदेशीय 34.20  
 -बत्ता  
 सहितता 1006.1

बत्स  
 पशु पक्षी: शिशु 230.6  
 पुत्र 718.3  
 बालक 230.23  
 संतान 718.1  
 बत्स [बत्सा]  
 पशु: शिशु 230.11  
 बत्सक  
 पशु पक्षी: शिशु 230.6  
 बत्सक [बत्सका]  
 पशु: शिशु 230.11  
 बत्सपाल  
 बलराम 771.74  
 बत्सर  
 वर्ष 42.8  
 विष्णु 768.1  
 बत्सरांत  
 वर्ष अंत 42.20  
 बत्सराधि  
 वर्ष आरंभ 42.17  
 बत्सल  
 विष्णु 768.1  
 बत्सलता  
 वात्सल्य 721.1  
 बत्सल रस  
 वात्सल्य रस 455.17  
 बत्सिका  
 गाय: बछिया 230.15  
 बंदंती  
 लोक कथा 450.7  
 -बद  
 कथन कर्ता 430.18  
 बदन  
 कथन 430.1  
 मुख मंडल 140.11  
 मुख विवर 143.1  
 बदनीयर  
 मुख विवर 143.1  
 बदान्य  
 दानवीर 641.28  
 भिष्टभाषी 431.8  
 वापिलासी 421.36  
 वार्तालाप कुशल 435.26  
 बवाल  
 पाठीन 125.7  
 बवाबद  
 बात्नी 435.28  
 बहिता  
 कथन कर्ता 430.18  
 भाषण वाता 430.23  
 बघ  
 कथनीय 430.17  
 प्रशंसनीय 841.30  
 बघ  
 पशु बलि 754.8  
 मारण 251.1  
 बघ 251.3 ⇨  
 वजित दूरय सूची 483.28

हत्या 251.5  
**वधक**  
 जल्लाद 871 17  
 वध कर्ता 251.27  
**वध करना**  
 वध करना 251.19 ⇨  
**वध कर्ता**  
 वध कर्ता 251.27 ⇨  
**वधकाशी**  
 मृत्यु इच्छुक 249.28  
**वधकाम**  
 मारणेच्छुक 251 25  
**वध जीवी**  
 जल्लाद 871 17  
**वधत्र**  
 घातक शस्त्र 922 3  
 हत्या उपकरण 251 7  
**वध दंड**  
 मृत्यु दंड 871.1  
**वधना**  
 घातक शस्त्र 922 3  
**वध यंत्र**  
 हत्या उपकरण 251 7  
**वधस्थल**  
 मृत्यु दंड स्थल 871 9  
 हत्या स्थल 251 6  
**वधिक**  
 जल्लाद 871 17  
**वधित**  
 मारा [मारी] 251 23  
 हत्या कृत 251 22  
**वधु**  
 पत्नी 803.6  
 पुत्र वधु 724 24  
 वधु 801.11  
**वधुका**  
 पुत्र वधु 724.24  
**वधु दक्षिणा**  
 कन्या शुल्क 802 2  
**वधु शुल्क**  
 कन्या शुल्क 802 2  
**वधू**  
 पत्नी 803 6  
 पुत्र वधु 724.24  
 वधु 801.11 ⇨  
 स्त्री 236.3  
**वधु गृह प्रवेश**  
 वधु गृह प्रवेश 800.40 ⇨  
**वधु वयन**  
 वधु वयन 799.31 ⇨  
**वधु वयन करना**  
 वधु वयन करना 799.50 ⇨  
**वधुटी**  
 पुत्र वधु 724.24  
 युवती 231.9  
**वधूत**  
 अवधूत 790.15

**वधु दर्शन**  
 मुँह दिखाई 800 36  
**वधुधन**  
 पत्नीधन 802.3  
**वधु पक्ष**  
 वधु पक्ष 801.2 ⇨  
**वधुः पिता**  
 वधुः पिता 801.3 ⇨  
**वधु लाना**  
 पुत्र का विवाह करना 799.46  
**वधु बस्त्र**  
 वधु बस्त्र 802.23 ⇨  
**वधु विदा**  
 विदायागी 800 31  
**वधु स्वागत**  
 आरता 800 4  
 वधु स्वागत 800 41 ⇨  
**वधोन्माद**  
 रणोन्माद 354.9  
**वध्य**  
 हंतव्य 251 21  
**वध्य भूमि**  
 मृत्यु दंड स्थल 871 9  
**वन**  
 उपवन 12 11  
 वन 12.1 ⇨  
**वनकन्या**  
 वनकन्या 12 6 ⇨  
**वन कांतार**  
 गहन वन 12 7  
**वन क्रीडा**  
 वन विहार 1085 9  
**वनग**  
 वानप्रस्थ आश्रमी 233 10  
**वन गमन**  
 सन्यास प्रवेश 233 8  
**वन गोचर**  
 वन 12.1  
**वनचर**  
 वनवासी 616.21  
 वन्य पशु 127.2  
**वनचर आश्रय**  
 अभयारण्य 12.9  
**वनचरः माता**  
 वनदेवी 12.5  
**वनज**  
 तुषारु 778.7  
**वन ज्योति**  
 दावा दीप्ति 287.17  
**वन-डे क्रिकेट**  
 वन-डे क्रिकेट 477.3 ⇨  
**वन-डे क्रिकेट (ऑ)**  
 वन-डे क्रिकेट 477.3  
**वन तुलसी**  
 मरुआ 281.26  
**वनदेव**  
 वन देवता 12.4

**वन देवता**  
 वन देवता 12 4 ⇨  
**वनदेवी**  
 वनदेवी 12.5 ⇨  
 वनदेवी 774.81 ⇨  
**वनदेवी (दे.)**  
 वनदेवी 774 81  
**वन पर्व**  
 महाभारत पर्व सूची 771 23  
**वनप्रिय**  
 सौभर 127 48  
**वनः बीच मैदान**  
 वन बीच मैदान 11 4 ⇨  
**वन भूमि**  
 वन्य भूमि 12 3  
**वन महोत्सव**  
 वन महोत्सव 12.30 ⇨  
**वन मार्जार**  
 गध बिलाव 127 58  
**वन मालिका**  
 घषा 14 15  
**वनमाली**  
 उपवन कर्मी 12 28  
 कृष्ण 771 1  
 मालाकार 12 33  
 विष्णु 768 1  
**वनराज**  
 बड़ा वृक्ष 111 21  
 सिंह 127 50  
**वनवास**  
 देश निर्वासन 870 10  
**वनवासित**  
 देश निर्वासित 870 27  
**वनवासी**  
 वनवासी 616 21 ⇨  
 वानप्रस्थ आश्रमी 233 10  
**वन विचरण**  
 वन विचरण 1085.3 ⇨  
**वन विहार**  
 वन विहार 1085.9 ⇨  
**वन वीथी**  
 कुंज गली 1063.20  
**वनवे ट्रैफिक (ऑ)**  
 एकदिशा मार्ग 1067.4  
**वनवेश**  
 वन्य परिधान 583.6  
**वन समूह**  
 वन समूह 12.2 ⇨  
**वनस्थ**  
 \* तपस्वी 789 14  
 वानप्रस्थ आश्रम 233.4  
 वानप्रस्थ आश्रमी 233.10  
**वनस्थली**  
 वन्य भूमि 12.3  
**वनस्था**  
 बरगद 13.16  
**वनस्पति**  
 बरगद 13.16

**वनस्पति 111.1 ⇨**  
**वनस्पति घी 196 8**  
 विष्णु 768 1  
**वनस्पति (दे.)**  
 वनस्पति जगत 121.2  
**वनस्पति क्षय**  
 वनस्पति क्षय 549.4 ⇨  
**वनस्पति घी**  
 वनस्पति घी 196 8 ⇨  
**वनस्पति जगत**  
 वनस्पति जगत 121.2 ⇨  
**वनस्पति पकना**  
 वनस्पति पकना 118 13 ⇨  
**वनस्पति पक्वन**  
 वनस्पति पक्वन 118 7 ⇨  
**वनस्पति भोजी**  
 निरामिषाहारी 204 5  
**वनस्पतिः माता**  
 इरा 787 10  
**वनस्पतियुक्त**  
 वनस्पतियुक्त 111 31 ⇨  
**वनस्पतियुक्तता**  
 वनस्पतियुक्तता 111.2 ⇨  
**वनस्पतियुक्त होना**  
 वनस्पतियुक्त होना 111.29 ⇨  
**वनस्पति रोग**  
 कृषि रोग 549 6  
**वनस्पतिहीन**  
 वनस्पतिहीन 111 32 ⇨  
**वनस्पतिहीनता**  
 वनस्पतिहीनता 111 3 ⇨  
**वनस्पतिहीन मैदान**  
 वनस्पतिहीन मैदान 11 2 ⇨  
**वनस्पतीय**  
 वनस्पतीय 111 30 ⇨  
**वनस्पतीय आहार**  
 निरामिष आहार 204.2  
**वनस्पतीय तेल**  
 वनस्पतीय तेल 196 12 ⇨  
**वनस्पतीय वसा**  
 वनस्पतीय वसा 132 6  
**वनस्पतीय वसा**  
 वनस्पतीय वसा 132.6 ⇨  
**वनहास**  
 कॉस घास 11 7  
**वनांत**  
 वन्य भूमि 12 3  
**वनाखु**  
 खरगोश 127 63  
**वनाग्नि**  
 दावा दीप्ति 287 17  
**वनालक्षक**  
 गेरु 290.21  
**वनाश्रय**  
 अभयारण्य 12.9  
**वनि**  
 दोहद 798.5  
**वनित [वनिता]**  
 इच्छित 359.19

## वनिता

### वनिता

- पत्नी 803 6  
स्त्री 236.3  
वनी  
वानप्रस्थ आश्रमी 233 10  
वृक्ष 111 18  
वनीय  
वन्य 12 36  
वनेघर  
वनवासी 616 21  
सन्यासी 790 11  
वनीका  
तपस्वी 789 14  
वनीबधि  
जड़ी बूटी 176 2  
वन्य  
अकृषित (अनाज) 187 22  
वन्य 12.36 ⇨  
वन्यतापूर्ण 734 17  
वन्यता  
वन्यता 734.5 ⇨  
वन्यतापूर्ण  
वन्यतापूर्ण 734.17 ⇨  
वन्य परिधान  
वन्य परिधान 583.6 ⇨  
वन्य पशु  
वन्य पशु 127 2 ⇨  
वन्य पशु: माता  
सरमा 787 23  
वन्य भूमि  
वन्य भूमि 12.3 ⇨  
वन्य वीथी  
पशुपथ 1063 48  
वन्य वृक्ष  
वन्य वृक्ष 111.22 ⇨  
वन्या  
असम्प्यता 734.1  
गहन वन 12.7  
वन समूह 12.2  
वनीकरण  
असम्पीकरण 734.2  
वपन  
बुआई 548 7  
वपा  
बौबी 603.6  
वपु  
अवतार 789.1  
आकार रूप 967 5  
शरीर 139.1  
वपुमान  
सुंदर 157 7  
सुडील 155 4  
वपुष  
सुडीलता 155 2  
वपुषमान  
सुंदर 157 7  
सुडील 155.4

### वपत्ता

- क्षीर कर्मी 224 2  
जनक 770 28  
बोने वाला 548.51  
वप्र  
खड़ा तट 25.16  
खेत 551 1  
घाट 25 20  
टीला 16 1  
परिधि 972 4  
वप्रा  
मृत्तिका बघ 22 4  
वप्रा  
कर्तव्य पालन 895 5  
कृतज्ञता 833 1  
निष्ठा 826 1  
वचन पालन 339 16  
वक्रात  
मृत्यु 249 1  
वक्रादार  
निष्ठावान 826 9  
वचन पालक 339 43  
सत्तानिष्ठ 826 11  
वक्रादारी  
कर्तव्य पालन 895 5  
निष्ठा निर्वाह 826 2  
वचन पालन 339 16  
सत्ता निष्ठा 826 4  
वबा  
महामारी 163 7  
वबाई  
संक्रामक 169 14  
वबाल  
परेशानी 519 4  
संकट 909.1  
वबम  
वमित पदार्थ 215 25  
वबन्धु  
वमन 215.26  
वमन  
वमन 215.26 ⇨  
वमन अनुभूति  
मिचलाहट 215.27  
वमन करना  
वमन करना 215.29 ⇨  
वमन कारण  
वमनकारी 215.33  
वमनकारी  
वमनकारी 215.33 ⇨  
वमन रोषक  
वमन रोषक 215.34 ⇨  
वमन रोषी  
वमन रोषक 215.34  
वमित  
वमित 215.32 ⇨  
वमित पदार्थ  
वमित पदार्थ 215.25 ⇨

### वनी

- मिचलाहट 215 27  
वन्नक  
दीमक 122.29  
वन्नी  
दीमक 122 29  
वय: संधि  
वयसंधि 230 30  
वय  
जीवन अवस्था 229.15  
यीवन 231 6  
वय 229 11 ⇨  
सम्मान कारण सूची 854 6  
वय गणना: उपमान सूची  
वय गणना उपमान सूची 229 12 ⇨  
वयन  
बुनाई कर्म 576 1  
वयन शाला  
बुनाई स्थल 562 18  
वय में छोट्टा  
कनिष्ठ 229 26  
वय में बड़ा  
ज्येष्ठ 229 25  
वय में बड़ला  
मध्येष्ठ 229 27  
वयम्  
हम 316 21  
वयसंधि  
वयसंधि 230 30 ⇨  
वयस  
वय 229 11  
वयसिका  
विश्वस्त दासी 651.12  
वयस्क  
पूर्ण विकसित 534.15  
युवा 231.12  
वयस्क 229 21 ⇨  
वयस्कता  
यीवन 231 6  
वयस्कता 229.13 ⇨  
वयस्य  
समवयस्क 229 24  
वयस्या  
विश्वस्त दासी 651.12  
स्त्री मित्र 705 3  
वयित  
बुना [बुनी] 576.27  
वयिता  
बुनाई कर्मी 576.2  
वयोगत  
वयस्क 229.21  
वृद्ध [वृद्धा] 232.10  
वयोगतता  
वयस्कता 229.13  
वयोधिक  
ज्येष्ठ 229.25  
वयोऽवस्था  
वय 229.11

### वयोवृद्ध

- पीर 744.18  
वयोवृद्ध 232.11 ⇨  
वयोवृद्धा  
वृद्ध स्त्री 232 5  
वरंघ  
अन्यथा 514 25  
किंतु 507 16  
बल्कि 507.18  
वरंड  
मत्स्य आखेट डोरी 252 19  
मुहासा 165 12  
वरंड लंबुक  
मत्स्य आखेट. डोरी 252 19  
वर  
उत्तम 313 13  
उपहार 640.2  
घनन 1009.2  
दान 641 1  
दामाद 724.22  
प्रिय 369.7  
प्रेमी 368.2  
वर 801.10 ⇨  
वरदान 714.1  
विवाह आकांक्षी 799.61  
-वर  
सहित प्रत्यय सूची 1006 5  
वरक  
आच्छादन कर्ता 592 14  
वरक  
कागज़ पटल 990 5  
कागज़. शीट 415.10  
वरक  
घादर 593.17  
वरक  
धातु पटल 990.17  
पत्तर 990.23  
पृष्ठ 447 20  
वरक 283.19 ⇨  
वरक  
वस्त्राच्छाद 593.2  
वर कन्या  
वर वयु 801.9  
वरक बनाई  
वरक बनाई 545.7 ⇨  
वरक बनाने वाला  
वरक बनाने वाला 545.8 ⇨  
वरकांक्षिणी  
विवाह आकांक्षिणी 799.62  
वरक  
कागज़. शीट 415.10  
वर कामना  
वर याचना 714.3  
वर कामिनी  
विवाह आकांक्षिणी 799.62  
वरकाय  
सुंदरकाय 158.11

रक्षी  
सस्तारित 990.30  
र गृह गमन  
बिदायगी 800.31  
र चयन  
वर चयन 799.30 ⇌  
स्वयंवर विवाह 799.18  
रज  
अग्रज [अग्रजा] 723.8  
रजना  
निषिद्ध करना 880.6  
रजिशा  
अभ्यास 303.5  
व्यायाम 485.1  
रट  
हस 126.76  
रटा  
भिड़ 122.34  
मादा हंस 126.77  
रण  
अभिर्नन्दन 854.8  
चयन 1009.2  
निर्वाचन 888.1  
विवाहन 799.6  
स्वयंवर विवाह 799.18  
रण कर्ता  
चयन कर्ता 1009.19  
रणीय  
प्रिय 369.7  
रतनु  
सुंदरकाय 158.11  
सुडील 155.4  
रत्वक  
नीम 13.12  
रद  
इच्छा पूरक 381.14  
वरदाता 714.9  
विष्णु 768.1  
रद [वरदा]  
वरदाता 714.9  
र दक्षिणा  
दहेज 802.4  
र दस  
बराती 801.7  
रदा  
जवा कुंसुम 14.17  
स्वयंवर 799.19  
रदाता  
वरदाता 714.9 ⇌  
रदाता [वरदात्री]  
वरदाता 714.9  
रदान  
वरदान 714.1 ⇌  
वर प्रदान 714.2  
सुखद वस्तु 390.3  
रदान मींगना  
वर मींगना 714.8

वरदानी  
वरदाता 714.9  
वर दायक  
वरदाता 714.9  
वरदी  
वरदी 589.14 ⇌  
विशिष्ट वेश 589.11  
वर देना  
इच्छा पूरी करना 361.8  
वर देना 714.5 ⇌  
वर द्वारा कन्या क्रय  
आसुर विवाह 799.22  
वरन  
अन्यथा 514.25  
बल्कि 507.18  
वर नहछू  
नहछू 800.2  
वरना  
अन्यथा 514.25  
चयन करना 1009.13  
बल्कि 507.18  
विकल्पत 516.6  
विवाह करना 799.45  
वर पक्ष  
बराती 801.7  
वर पक्ष 801.4 ⇌  
वरः पगड़ी  
वर पगड़ी 802.25 ⇌  
वरः पिता  
वरः पिता 801.5 ⇌  
वरः पीका  
वरासन 802.19  
वरप्रद [वरप्रदा]  
वरदाता 714.9  
वर प्रदाता  
वरदाता 714.9  
वर प्रदान  
वर प्रदान 714.2 ⇌  
वरप्रभ  
बोधिसत्व सूची 793.16  
वर प्रस्थान  
वरयात्रा 800.43  
वर प्रार्थना  
वर याचना 714.3  
वरफल  
नारियल 13.11  
वरम  
कयच 921.2  
शोथ 166.8  
वर मींगना  
वर मींगना 714.8 ⇌  
वरमाला  
वरमाला 800.42  
वरमाला  
वरमाला 800.42 ⇌  
वरमाला 802.20 ⇌  
वरमुष्ठी  
रेणुका 274.25

वर याचक  
वर याचक 714.10 ⇌  
वर याचना  
वर याचना 714.3 ⇌  
वर याचना करना  
वर मींगना 714.6  
वरयात्रा  
वरयात्रा 800.43 ⇌  
वरयात्रा चलना  
वरयात्रा चलना 799.56 ⇌  
वरयात्रा निर्मंत्रण  
लग्न पत्रिका 799.39  
वरयात्रा भोज  
बरात भोज 183.9  
वरयात्रा स्वागत  
वरयात्रा स्वागत 800.44 ⇌  
वरयात्री  
बराती 801.7  
वरयिता  
चयन कर्ता 1009.19  
निर्वाचक 888.5  
विवाह आकाक्षी 799.61  
वररुधि  
कलापूर्ण 402.3  
सुरुधि सपत्र 400.16  
वर रोक  
वर रोक 800.45 ⇌  
वरला [वरली]  
इस पार का 998.3  
निकट तटवर्ती 25.33  
वरली पार  
सीमा के इस ओर 1001.45  
वर रथू  
वर रथू 801.9 ⇌  
वर वरण  
स्वयंवर विवाह 799.18  
वरवर्णिनी  
लक्ष्मी 775.1  
सरस्वती 775.8  
वर वस्त्र  
वर वस्त्र 802.24 ⇌  
वरसोधी  
वार्षिक पारिश्रमिक 643.9  
वर स्नान  
बान तेल 800.30  
वर स्वागत  
आरता 800.4  
वरयात्रा स्वागत 800.44  
वर स्वागत 800.46 ⇌  
वरांग  
भग 152.13  
शिव 787.1  
सुडील 155.4  
हाथी 127.38  
वरांग [वरांगना]  
सुंदरकाय 158.11  
वरांगक  
सुडील 155.4

वरांगना  
सुंदर स्त्री 157.2  
वरांगी [वरांगिणी]  
सुंदरकाय 158.11  
वरा  
पार्वती 776.9  
प्रेमिका 368.3  
वधू 801.11  
विवाह आकाक्षिणी 799.62  
स्वयंवरा 799.19  
वराकाक्षी  
वर याचक 714.10  
वराटक  
कमल कोश 112.8  
वराटिका  
कौड़ी 124.15  
कौड़ी 829.10  
वराटी  
राग रागिनी सूची 457.24  
वरानन  
सुंदर मुखाकृति 158.2  
वरानन [वरानना]  
सुमुख [सुमुखी] 158.12  
वरानना  
सुंदर स्त्री 157.2  
वरार्थी  
वर याचक 714.10  
वरासत  
आनुवंशिकता 727.17  
वरासतन  
अनुवंशत 727.44  
वरासन  
वरासन 802.19 ⇌  
वराह  
वराह अवतार 769.34  
विष्णुः चौबीस अवतार सूची 769.9  
विष्णुः दस अवतार सूची 769.8  
सुअर 127.81  
वराह अवतार  
वराह अवतार 769.34 ⇌  
वराह पुराण  
पुराण सूची 740.17  
वराहावतार  
वराह अवतार 769.34  
वराही  
नागर मोथा 281.22  
वरित  
चयन कृत 1009.18  
निर्वाचित 888.34  
वरिता  
चयन कर्ता 1009.19  
निर्वाचक 888.5  
वरिमा  
उत्कर्ष सीमा 1001.6  
उत्तमतमता 313.3  
पराकाष्ठा 534.3  
परिपूर्णता 313.5  
परिष्कृतता 537.3

## वरिष्ठ

**वरिष्ठ**  
उच्च पदाधिकारी 652.6  
उत्तम 313.13  
ज्येष्ठ 229.25  
तीतर 126.43  
परिपूर्ण 313.14  
प्रधान 852.10

**वरीता**  
विवाह आकाक्षी 799.61

**वरीयता**  
प्रधानता 852.3

**वरीय प्रजनन**  
वरीय प्रजनन 243.6 ⇨

**वरीयान**  
महान 839.8

**वरीवर्त**  
टरबाइन 1078.16

**वरुण**  
जल 88.1  
दिव्यास्त्र सूची 928.2  
बारह आदित्य सूची 777.4  
लोकपाल सूची 780.7  
वरुण 773.43 ⇨  
वरुण ग्रह 7.15  
विष्णु 768.1  
सूर्य 8.1  
सीर मंडल ग्रह सूची 7.4

**वरुण कशा**  
अरब सागर 24.14

**वरुण ग्रह**  
वरुण ग्रह 7.15 ⇨

**वरुण देव**  
वरुण 773.43

**वरुण-देवी: पुत्री**  
वारुणी 774.84

**वरुण पाश**  
दिव्य पाश सूची 928.5

**वरुण: पुत्र**  
सुषेण 781.18

**वरुण विषयक**  
वरुणीय 773.55

**वरुणालय**  
समुद्र 24.1

**वरुणीय**  
वरुणीय 773.55 ⇨

**वरुथ यान**  
टैंक 1070.17

**वरुथिनी**  
सेना 932.1

**वरुथी**  
रथ 1071.48

**वर्द्ध**  
ईद 773.5

**वरे**  
इस पार 998.6

**वरेण्य**  
इच्छनीय 359.20  
उत्तम 313.13

परिपूर्ण 313.14  
पूजनीय 751.24  
प्रधान 852.10  
शिव 767.1  
सम्मान्य 854.20

**वर्क**  
वरक 283.19

**वर्क (औ)**  
साहित्य कृति 450.2

**वर्क बँच**  
वर्क बँच 595.38 ⇨

**वर्क बँच (औ)**  
वर्क बँच 595.38

**वर्कर (औ)**  
कार्यकर्ता 506.9

**वर्कशीप (औ)**  
कार्यशाला 654.2  
मरम्मत घर 538.3

**वर्किंग (औ)**  
तदर्थ नियुक्त 653.39

**वर्किंग कमिटी (औ)**  
कार्य समिति 692.22

**वर्ग**  
कक्षा 691.3  
कोटि 936.1  
जाति 730.1  
दल 691.1  
धर्म 735.1  
मंडली 691.5  
वर्ग आकृति 969.6  
समाज वर्ग 688.7  
समूह 690.1

**वर्ग आकृति**  
वर्ग आकृति 969.6 ⇨

**वर्ग किलोमीटर**  
वर्ग किलोमीटर 959.43 ⇨

**वर्ग गज: 1296**  
बीघा 959.37

**वर्ग गज: 4840**  
एकड़ 959.35

**वर्गणा**  
गुणन कर्म 955.1

**वर्गन**  
वर्गन 955.9 ⇨

**वर्गपद**  
वर्गमूल 955.11

**वर्ग पहेली**  
वर्ग पहेली 333.15 ⇨

**वर्गफल**  
क्षेत्रफल 966.1  
वर्गफल 955.10 ⇨

**वर्ग फुट: 100 (जहाज़रानी)**  
टन 959.49

**वर्ग: भुजा**  
वर्ग: भुजा 968.35 ⇨

**वर्ग माप**  
क्षेत्र माप 959.32

**वर्ग मीटर**  
क्षेत्र माप एकक 958.4

**वर्ग मीटर: 100**  
ऐर 959.39

**वर्गमूल**  
वर्गमूल 955.11 ⇨

**वर्गयुक्त**  
जातियुक्त 730.17

**वर्गयुद्ध**  
वर्गयुद्ध 905.17 ⇨

**वर्ग विन्यस्त**  
कोटिकृत 936.13

**वर्ग विन्यासकीय**  
कोटिकरणीय 936.12

**वर्ग विन्यासन**  
कोटिकरण 936.5

**वर्ग संघर्ष**  
वर्गयुद्ध 905.17

**वर्ग: सब से बड़ा मूल**  
वर्ग: सब से बड़ा मूल 955.12 ⇨

**वर्गहीन**  
जातिहीन 730.18

**वर्गीक**  
क्षेत्रफल 966.1

**वर्गीकार**  
वर्गीकार 969.17 ⇨

**वर्गानुसार**  
कोटि अनुसार 936.15

**वर्गिकीय**  
कोटिकरणीय 936.12

**वर्गी**  
कोटीय 936.7

**वर्गीकरण**  
कोटिकरण 936.5

**वर्गीकरण करना**  
कोटिकरण करना 936.6

**वर्गीकरण कर्ता**  
कोटिकरण कर्ता 936.14

**वर्गीकृत**  
कोटिकृत 936.13

**वर्गीय**  
कोटिकरणीय 936.12  
कोटीय 936.7

**वर्ग्य**  
कोटीय 936.7

**वर्धस**  
दीप्ति 287.16

**वर्धस्व**  
वरा 899.13

**वर्धस्वी**  
उत्साही 491.11  
तेजस्वी 839.9  
परिश्रमी 493.9  
शक्तिशाली 487.20  
स्फूर्त 491.13

**-वर्ध**  
रहित. प्रत्यय सूची 1007.6

**वर्जक**  
निषेध कर्ता 880.11

**वर्जना**  
घमकी 373.12  
निषेध 880.1

**वर्जयिता**  
निषेध कर्ता 880.11  
परित्यागी 1003.6

**वर्जित**  
अवैय 678.27  
निषिद्ध 880.12  
प्रवेश निषिद्ध 1094.28

**वर्जित क्षेत्र**  
निषिद्ध क्षेत्र 1094.12

**वर्जित दूरय**  
वर्जित दूरय 463.27 ⇨

**वर्जित दूरय सूची**  
वर्जित दूरय सूची 463.28 ⇨

**वर्जिन (औ)**  
मरियम 791.19

**वर्जिन मेरी (औ)**  
मरियम 791.19

**वर्जिशा**  
व्यायाम 485.1

**वर्टिकल (औ)**  
उन्नमित 1025.7

**वर्टिकलिटी (औ)**  
उन्नमितता 1025.2  
प्रतिक्षिपता 1020.4

**वर्टेक्स (औ)**  
कोण बिंदु 968.4

**वर्ड (औ)**  
शब्द ब्रह्म 764.30

**वर्ड प्रोसेसर**  
वर्ड प्रोसेसर 413.5 ⇨

**वर्ड प्रोसेसर (औ)**  
वर्ड प्रोसेसर 413.5

**वर्ड प्रोसेसिंग**  
वर्ड प्रोसेसिंग 413.4 ⇨

**वर्ड प्रोसेसिंग (औ)**  
वर्ड प्रोसेसिंग 413.4

**वर्डिक्ट (औ)**  
अधिमत 877.16

**वर्ण**  
अक्षर 410.2  
अज्ञात राशि 952.8  
अनिश्चित संख्या 949.4  
आकार रूप 967.5  
चित्र 404.1  
छंद वर्ण 452.41  
जातीय रंग 730.6  
धार्मिक वेश 589.7  
नस्स 243.3  
परिधान 583.1  
रंग 289.1  
वर्ण 731.2 ⇨  
वेश 589.1  
संगीत वर्ण 459.23



संगीत स्वर 459.1  
 वर्ण उच्चारण  
 उच्चारण 411 1  
 वर्णक त्वाचा  
 त्वाचा स्तर सूची 134 7  
 वर्णकावली  
 त्वाचा स्तर सूची 134 7  
 वर्ण क्रम  
 अकारादि क्रम 991.5  
 वर्णाली 289 7  
 वर्ण गंधीरता  
 रंग छाया 289 3  
 वर्ण गण  
 वार्णिक गण 452 42  
 वर्णध्रुत  
 जाति निर्वासित 870.28  
 वर्ण तुली  
 तुलिका 404.33  
 वर्णद  
 आरंजक 291 11  
 वर्ण धर्म  
 वर्ण धर्म 737.31 ⇨  
 वर्ण व्यवस्था 731 1  
 वर्णन  
 परिभाषा 317 1  
 प्रशंसन 841 4  
 वर्णन 449.1 ⇨  
 साहित्य लेखन 448 1  
 वर्णन (दे.)  
 वृत्तांत 449.14  
 वर्णन करना  
 वर्णन करना 449.19 ⇨  
 वर्णन कर्ता  
 वर्णन कर्ता 449.27 ⇨  
 वर्णन न कर पाना  
 वर्णन न कर पाना 449.20 ⇨  
 वर्णन हाकि  
 वाणिलास 421.20  
 वर्णन साहित्य  
 वर्णन साहित्य 449.3 ⇨  
 वर्णनातीत  
 अपरिभाष्य 317.20  
 अवर्णनीय 449.26  
 वर्णनातीतता  
 अपरिभाष्यता 317.4  
 अवर्णनीयता 449.2  
 वर्णनातीत होना  
 वर्णन न कर पाना 449.20  
 वर्णनात्मक  
 वर्णनात्मक 449.23 ⇨  
 वर्णनात्मक रचना  
 वर्णन साहित्य 449 3  
 वर्ण निर्वासन  
 जाति निर्वासन 870.11  
 वर्णनीच  
 वर्णनीय 449.25 ⇨  
 वर्ण पात  
 अक्षर लोप 411.3

वर्ण पात्र  
 पैलेट 404.34  
 वर्ण बहिष्कार  
 जाति निर्वासन 870 11  
 वर्णमाला  
 वर्णमाला 410.1 ⇨  
 वर्णमाला पुस्तक 322 3  
 वर्णमाला पुस्तक  
 वर्णमाला पुस्तक 322 3 ⇨  
 वर्ण विज्ञान  
 रंग विज्ञान 289 5  
 वर्ण विज्ञानीय  
 रंग विज्ञानीय 289.30  
 वर्ण विन्यास  
 रंग विन्यास 289 11  
 वर्ण विन्यास 411.15 ⇨  
 वर्ण वृत्त  
 वार्णिक छंद 452 4  
 वर्ण व्यंजन  
 व्यंजन अक्षर 410 7  
 वर्णव्य  
 रंगव्य 290 1  
 वर्ण व्यवस्था  
 वर्ण व्यवस्था 731.1 ⇨  
 वर्ण शुद्धता  
 वर्ण शुद्धता 731 30 ⇨  
 वर्ण संकर  
 रंग संकर 730 23  
 वर्ण संकर 731.40 ⇨  
 वर्ण साम्य  
 अनुप्रास अलंकार 454 9  
 वर्ण सूची  
 वर्ण सूची 731.4 ⇨  
 वर्णसोम (प्र)  
 क्रोमासोम 130.2  
 वर्ण स्वर  
 स्वर अक्षर 410.6  
 वर्णहीन  
 अरंजित 291.15  
 निम्न वर्णीय 731.33  
 वर्णागत शब्द  
 निपात शब्द 423.8  
 वर्णाट  
 प्रेम कर्ता 368 19  
 वर्णात्मक ध्वनि  
 व्याकृता वाचा 299.2  
 वर्णात्मा  
 शब्द 423.1  
 वर्णभ्रा  
 रंग आभा 289.2  
 वर्णाली  
 वर्णाली 289.7 ⇨  
 वर्णाली (प्र)  
 वर्णाली 289.7  
 वर्णाली मणि  
 प्रिप्न 289.6  
 वर्णाली रंग  
 वर्णाली रंग 289.8 ⇨

वर्णाली रंग सूची  
 वर्णाली रंग सूची 289.9 ⇨  
 वर्णावर  
 निम्न वर्णीय 731 33  
 वर्णावली  
 रंग विन्यास 289 11  
 वर्णाश्रम  
 वर्णाश्रम धर्म 737 32  
 वर्णाश्रम धर्म  
 वर्णाश्रम धर्म 737.32 ⇨  
 हिंदू धर्म 737 27  
 वर्णाश्रम धर्म संस्थापक  
 स्वायंभुव मनु 788 6  
 वर्णिक  
 लिपिक 412 4  
 वर्णीय 731 31  
 वार्णिक 452 56  
 वर्णिका  
 खड्किया भिट्टी 100 13  
 रंग विन्यास 289 11  
 वर्णिकी  
 रंग विज्ञान 289 5  
 वर्णिकीय  
 रंग विज्ञानीय 289 30  
 वर्णित  
 अभिव्यक्त 428.17  
 आरंजित 291 14  
 चित्रांकित 404 36  
 परिभाषित 317 17  
 प्रशंसित 841 29  
 वर्णित 449.24 ⇨  
 सविस्तार विवृत्त 449 29  
 वर्णि शी  
 ह-नदी 281 38  
 वर्णी  
 चित्रकार 404.25  
 शिव 767 1  
 वर्णीय  
 रंगीय 289.29  
 वर्णीय 731.31 ⇨  
 वर्ण्य  
 उपमेय 309 9  
 परिभाष्य 317 19  
 वर्णनीय 449.25  
 वर्त  
 एक चक्रावृत्ति 1033 13  
 वर्तक  
 चक्रायक 1033.19  
 बटेर 126.55  
 वर्तन  
 उपभोगन 524.2  
 परिधि चक्रण 1033.2  
 परिवर्तन 532.1  
 व्यवहार 703.2  
 वर्तनशील  
 परिवर्तनशील 532.17  
 वर्तनशीलता  
 परिवर्तनशीलता 532.2

वर्तनी  
 आरंभिक ज्ञान 994.5  
 वर्ण विन्यास 411.15  
 वर्तमान  
 आधुनिक 64 7  
 उपस्थित 1021 9  
 जीवित 246 13  
 वर्तमान 66.6 ⇨  
 वर्तमान कालीन 36 21  
 समक्ष 1021 8  
 वर्तमान काल  
 आधुनिक काल 76 9  
 क्रिया काल सूची 425 9  
 वर्तमान काल 36.13 ⇨  
 वर्तमान कालीन  
 कलियुगीन 40 20  
 वर्तमान कालीन 36 21 ⇨  
 वर्तमानता  
 आधुनिकता 64 1  
 उपस्थिति 1021 2  
 वर्तमानता 66.1 ⇨  
 समक्षता 1021 1  
 वर्तमान परिस्थिति  
 वर्तमान परिस्थिति 69.6 ⇨  
 वर्तमान मनु  
 वैवस्वत मनु 788 5  
 वर्तमान मूल्य  
 प्रचलित मूल्य 664 3  
 वर्तमान में  
 वर्तमान में 36 33 ⇨  
 वर्तमान होना  
 वर्तमान होना 66 2 ⇨  
 वर्तकक  
 प्रवाहहीन जल 21 12  
 वर्तलोह  
 वर्तलोह 93.13 ⇨  
 वर्तिका  
 तुलिका 404.33  
 दीपक वाली 285.17  
 बटेर 126.55  
 बत्ती 568.8  
 सलेट पीसिल 416 9  
 वर्तित  
 चक्रित 1033.17  
 वर्तित्ता  
 अस्तित्व 246.1  
 वर्तमानता 66 1  
 वर्तित्र  
 घूर्णित्र 1077 32  
 वर्तिर  
 बटेर 126.55  
 वर्तिष्णु  
 अस्तित्वशाली 246.11  
 घटनशील 75.12  
 चक्रित 1033.17  
 वर्तमान 66.6  
 वर्तमान कालीन 36.21

## वर्ती

### वर्ती

अस्तित्वशाली 246.11  
उपस्थित 1021 9  
बत्ती 568 8  
शलाका 597 16  
सलेट पैसिल 416 9

### वर्तुल

गोल पिंड 977 1  
मटर 189 31  
वर्तुलाकार 976 16

### वर्तुल करना

वर्तुल करना 976 14 ⇨

### वर्तुल पिंड

वर्तुल पिंड 976 4 ⇨

### वर्तुलप्राय

वर्तुलप्राय 976 18 ⇨

### वर्तुलप्राय पिंड

वर्तुलप्राय पिंड 976 6 ⇨

### वर्तुला

घरखा घुडी 562 9

### वर्तुलाकार

वर्तुलाकार 976 16 ⇨

### वर्तुलाकृति

वर्तुल पिंड 976 4

### वर्तुलाग्र

अक्षाग्र 1077 13

### वर्त्म

पलक 141 13

मार्ग 1063 1

### वर्दी

वरदी 589 14

### वर्द्धित

वर्धित 979 20

### वर्धक

उन्नतिकारी 534 12

वर्धक 979 22 ⇨

### वर्धकाय

विकसित 534 14

### वर्धन

गुणन कर्म 955 1

परिवर्धन 979 6

### -वर्धन

वर्धक 979 22

### वर्धनी

झाड़ू 218.17

### वर्धमान

महावीर 792.4

वर्धित 979 20

विष्णु 768 1

वृद्धिशील 979.21

### वर्धयिता

वर्धक 979 22

### वर्धित

पूर्ण विकसित 534 15

बृहत् 979.15

वर्धित 979.20 ⇨

### वर्धित करना

परिवर्धित करना 979.13

### वर्धित होना

वर्धित होना 979.12 ⇨

### वर्धिष्णु

वृद्धिशील 979 21

### वर्धिष्णमाण

वृद्धिशील 979 21

### वर्धर्म

हर्निया 163 31

### वर्ध

सीसा 94 14

### वर्म

कवच 921 2

### वर्म (अँ)

कृमि 122 6

### वर्मधर

कवचधारी 921 15

### वर्मलोह

वर्मलोह 93 14 ⇨

### वर्मलोह

वर्मलोह 93 14

### वर्मा

कवचधारी 921 15

क्षत्रिय 731 19

### वर्मिक

कवचधारी 921 15

### वर्मी

कवचधारी 921 15

### वर्या

अविवाहित पुत्री 234 10

स्वयवरा 799 19

### वर्ल्ड वाइड वेब (अँ)

इंटरनेट 444 31

### वर्वट

लोबिया 189.33

### वर्व

परिक्रमा काल 5.4

वय गणना: उपमान सूची 229 12

वर्व 42.8 ⇨

शिक्षालय वर्व 322.9

संवत्सर 42 1

### वर्व (प्राचीन)

महाद्वीप 26.4

वर्व: 4,32,00,00,000

कल्प 40.8

वर्व: 77; मास: 7; रात: 7

कालरात्रि 48.9

### वर्व अंत

वर्व अंत 42.20 ⇨

### वर्व आरंभ

वर्व आरंभ 42.17 ⇨

### वर्वक

वर्वयिता 54.22

वर्वयिता 54.22

### वर्व गणना

संवत्सर 42.1

### वर्व गौड

जन्म दिवस 58.2

### वर्वज

वर्वोत्पन्न 54 21

### वर्वज्राण

छाता 584.29

### वर्वद

वर्वद 54 23 ⇨

### वर्व देय

वार्षिक देय 634 10

### वर्वधर

मेघ 55 1

वर्व पर्वत 16 8

### वर्व पर्वत

वर्व पर्वत 16 8 ⇨

### वर्व पुस्तिका

अलमनाक 41.3

इयर बुक 993 14

वर्व: प्रथम दिवस

नव वर्व 42 18

### वर्व बोधनी

इयर बुक 446 18

### वर्व बोधिनी

अलमनाक 41 3

### वर्वभोज

वार्षिक भोज 183 8

### वर्वयिता

वर्वयिता 54 22 ⇨

### वर्वत

वर्व अंत 42.20

शरद काल 53 4

### वर्वभु

वर्षा जल 88 5

### वर्वशा

मास 43 1

### वर्षा

प्रघार 1032 8

वर्षा 54.5 ⇨

वर्षा काल 54.1

वर्षा (दे.)

बरसाव 668.11

वर्षा (भाषण भाद्रपद)

छः ऋतु सूची 51.15

वर्षा कर्ता

वर्वयिता 54 22

वर्षा काल

वर्षा काल 54.1 ⇨

वर्षा कालीन

वर्षा कालीन 54.19 ⇨

### वर्षागम

वर्षा काल 54.1

वर्षा जल

वर्षा जल 88.5 ⇨

वर्षा ताल

पोखरा 18.9

वर्षा बुद्धि

वर्षा बुद्धि 54.4 ⇨

वर्षा: देवता

ईंद्र 773.5

### वर्षाधिप

वर्षाधिपति 261.20

### वर्षाधिपति

वर्षाधिपति 261.20 ⇨

### वर्षा न होना

वर्षा न होना 54.18 ⇨

### वर्षा पात

वर्षा 54.5

### वर्षाप्रद

वर्वद 54.23

### वर्षाप्रिय

घातक 126 39

### वर्षाभय

वर्वोत्पन्न 54 21

### वर्षाभू

केचुआ 122 7

वर्वोत्पन्न 54 21

### वर्षाभ्मी

मेढक प्रारम्भिक रूप 124 3

### वर्षा माप सूची

वर्षा माप सूची 958.40 ⇨

### वर्षा मापी

वर्षा मापी 958.41 ⇨

### वर्षा मेघ

वर्षा मेघ 55 5 ⇨

### वर्षारंभ

वर्व आरंभ 42 17

### वर्षा रानी

वर्षा काल 54 1

### वर्षा रोधन

वर्षा रोधन 920.8 ⇨

### वर्षार्ध

अयन 5.16

### वर्षाल

श्लथ 122.42

### वर्षावलंबित

वर्षा सिंचित 548.56

### वर्षा वारण

वर्षा रोधन 920.8

### वर्षा सिंचन

वर्षासिंचित कृषि 548.17

### वर्षा सिंचित

वर्षा सिंचित 548.56 ⇨

### वर्षासिंचित कृषि

वर्षासिंचित कृषि 548.17 ⇨

### वर्षा हिम

वर्षा हिम 54.14 ⇨

### वर्षाहीन

वर्षाहीन 54.20 ⇨

### वर्षाहीनता

वर्षाहीनता 54.2 ⇨

### वर्षा होना

वर्षा होना 54.17 ⇨

### वर्षिता

वर्वयिता 54.22

### वर्विच्छ

वयोवृद्ध 232.11

वर्षी  
वर्षीयता 54.22  
-वर्षी  
वर्षीय 42.27  
वर्षीय  
वर्षीय 42.27 ⇨  
वर्षुकामुद  
वर्षा मेघ 55.5  
वर्ष  
सवत्सर मे 42.28  
वर्षा  
वर्षाधिपति 261.20  
वर्षोत्पन्न  
वर्षोत्पन्न 54.21 ⇨  
वर्षोत्सव  
जयती 58.1  
वर्षोपल  
ओला 54.15  
वर्स (अं)  
पद्य 451.4  
वस्टैड  
वस्टैड 580.41 ⇨  
वस्टैड (अं)  
वस्टैड 580.41  
वर्हि  
जल 88.1  
वर्हियान  
स्कन्द 773.50  
वर्हि  
मोर 126.68  
वर्लब  
लाठी 923.9  
वर्लभी  
चंद्रशाला 614.24  
छप्पर 615.1  
ढलवौ छत 611.18  
भवन शिखर 611.1  
वलय  
कंगन 228.5  
तह 975.15  
त्रिवलय 134.9  
त्वषा वलय 134.8  
परिधि 972.4  
वलय 975.9 ⇨  
शिकन 975.7  
सेना पीठि 933.8  
वलय डालना  
कलय डालना 975.21 ⇨  
वलयन  
पेघन 1016.7  
वलयकार  
वृत्ताकार 972.15  
वलयतिरेक  
सर्पिलता 974.5  
वलयित  
पेधित 1016.48  
लिपटा [लिपटी] 575.12  
वलयित 975.29 ⇨

वलयी  
पेघदार 1016.49  
वलायत  
ब्रह्मलीन अवस्था 257.5  
वलि  
छप्पर किनारा 615.2  
राज्य. देय उपज 647.30  
वलित  
पेधित 1016.48  
लिपटा [लिपटी] 575.12  
वलयित 975.29  
वेष्टित 592.17  
शिकनदार 975.28  
वलिम  
पेघदार 1016.49  
शिकनदार 975.28  
वलिश  
मत्स्य आखेट बंसी 252.18  
वली  
अभिपिता 720.12  
इसलामी साधु 790.23  
मुसलमान सिद्ध 790.32  
सिद्ध साधु 790.30  
वली अस्लाह  
इसलामी साधु 790.23  
मुसलमान सिद्ध 790.32  
वली अहद  
युवराज 882.22  
वलीक  
छप्पर किनारा 615.2  
वली: मज़ार  
रोज़ा 745.19  
वलीमुख  
वानर (मरुत) 781.5  
वलीबदन  
वानर (मरुत) 781.5  
वलीकिन  
किंतु 507.16  
वल्कल  
छाल 116.5  
वल्कलधारी  
वल्कलधारी 583.28 ⇨  
वल्कल परिधान  
वल्कल परिधान 583.7 ⇨  
वल्कली  
वल्कलधारी 583.28  
वल्गक  
कूदने वाला 1088.22  
वल्गा  
जोत: रस्सी 555.16  
लगाव 555.17  
वल्गा हरिण  
रेनडियर 127.47  
वल्गित  
उछला [उछली] 1030.29  
वल्गु  
सुंदर 167.7

वल्गुज  
नर बकरी 127.23  
वल्गुनाद  
गायक पक्षी 126.8  
वल्गुल  
चमगादड 127.67  
वल्दीयत  
जनन सबघ 716.1  
वश परिघय 727.11  
वल्धन  
पूर्ण भक्षण 181.11  
वल्मीक  
बॉबी 603.6  
वल्ल  
ओसाई 548.22  
वल्लकी  
दीणा 461.77  
वल्लभ  
गृहपति 235.5  
प्रेमपात्र 369.4  
महा अघ्यक्ष 652.16  
शृंगारी नायक 456.1  
सत्ताधारी 899.3  
स्वामी 621.2  
वल्लभता  
प्रियता 369.1  
प्रेमपात्रता 369.3  
लोकप्रियता 849.9  
वल्लभ संप्रदाय  
वल्लभ संप्रदाय 737.43 ⇨  
वल्लभा  
गोपी 771.32  
यिका 467.10  
पत्नी 803.6  
प्रेमपात्रा 369.5  
प्रेमिका 368.3  
शृंगारी नायिका 456.6  
वल्लपी  
मंजरी 115.10  
लता 111.17  
वल्लपः  
गोप 771.31  
दैत्य सूची 783.19  
वल्लपी  
गोपी 771.32  
वल्साह  
शाबाशी: उद्गार सूची 841.40  
वल्सि  
लता 111.17  
वल्सिका  
लता 111.17  
वल्सिज  
काली मिर्च 278.4  
वल्सी  
लता 111.17  
वल्सुर  
मरुधल 11.11  
वृक्ष कुंज 12.18

वल्सुर  
ऊसर 552.3  
परती 552.6  
वन 12.1  
वल्वल  
असुर सूची 783.8  
वशांकर  
वशाधीन कर्ता 901.10  
वशीकरण कर्ता 758.23  
वशांकृत  
वशीकृत 758.41  
वशा  
अधिकार 897.1  
वश 899.13 ⇨  
सयम 808.8  
वशा (शै.)  
नियंत्रण 899.10  
सत्ता 899.1  
वशाकर  
वशाधीन कर्ता 901.10  
वशा कर्ता  
वशाधीन कर्ता 901.10  
वशा क्रिया  
वशीकरण 758.22  
वशागत  
वशाधीन 901.9  
वशा चलना  
वशा होना 899.21  
वशा न चलना  
वशा न होना 900.6  
वशा न होना  
अधिकार न होना 898.2  
वशा न होना 900.6 ⇨  
वशावती  
वशाधीन 901.9  
वशा होना  
वशा होना 899.21 ⇨  
वशा  
ननद 724.32  
मादा हाथी 127.39  
वशासीत  
वशोत्तर 900.9  
वशाधीन  
वशाधीन 901.9 ⇨  
वशाधीन करना  
वशाधीन करना 901.6 ⇨  
वशाधीन कर्ता  
वशाधीन कर्ता 901.10 ⇨  
वशाधीनता  
पराधीनता 901.1  
वशाधीनन  
वशाधीनन 901.2 ⇨  
वशाधीन होना  
वशाधीन होना 901.5 ⇨  
वशानुग  
आज्ञा पालक 347.12  
वशीकृत 758.41

## वशित्व

वशित्व  
सिद्धि देवी सूची 774 101  
वशिभा  
सम्मोह 367 1  
वशिष्ठ  
वशिष्ठ 789.18  
वशी  
ऋषि 789 2  
वशीकर  
वशाधीन कर्ता 901 10  
वशीकरण कर्ता 758 23  
वशीकरण  
तत्र क्रिया सूची 758 5  
वशीकरण 758 22 ⇨  
वशीकरण करना  
वशीकरण करना 758.36 ⇨  
वशीकरण कर्ता  
वशीकरण कर्ता 758.23 ⇨  
वशीकरण यंत्र  
वशीकरण यंत्र 758.21 ⇨  
वशीकरण विद्या  
वशीकरण विद्या 758.20 ⇨  
वशीकर्ता  
वशीकरण कर्ता 758.23  
वशीकृत  
वशीकृत 758 41 ⇨  
वशीभूत  
गहन प्रभावित 511.15  
वशाधीन 901 9  
वशीकृत 758 41  
वशीभूति  
गहन प्रभाव 511.6  
वशेतर  
वशेतर 900 9 ⇨  
वशेतरता  
वशेतरता 900.3 ⇨  
वशेतर होना  
वशेतर होना 900 5 ⇨  
वश्य  
दम्प्य 518.23  
वश्यता  
उत्तरदायित्व 895 3  
वश्या  
गोरोचन 274 19  
वषट् कर्ता  
आहुति दाता 753 7  
वषट्कार  
विष्णु 768 1  
वसंत  
उन्नति काल 534 2  
घार ऋतु सूची 51.14  
राग रागिनी सूची 457 24  
वय गणना. उपमान सूची 229.12  
वसंत काल 52 1  
वसंत पंचमी 57 23  
वसंत सूची 457 22  
वसंत (शैत्र वैशाख)  
छः ऋतु सूची 51 15

वसंत (शब्दार्थ)  
इंस्टर 57 55  
वसंत ऋतु  
वसंत काल 52.1  
वसंत काल  
यीवन 231.6  
वसत काल 52.1 ⇨  
वसंत कालीन  
वसत कालीन 52.3 ⇨  
वसंत गीत  
वैती 457.31  
जोगीड़ा 457.33  
फाग 457 35  
वसंत तिलका  
वसत तिलका 452.16 ⇨  
वसंत दूत  
वैत्र 43 7  
वसंत दूती  
कोयल 126.21  
वसंत द्रुम  
आम वृक्ष 13.5  
वसंत पंचमी  
वसत पंचमी 57.23 ⇨  
वसंत पतझड़  
विपरीतता उपमान सूची 310.13  
वसंत भाष्य  
शिव 767 1  
वसंत यात्रा  
वसतोत्सव 57 24  
वसंत विजुव  
वसत विजुव 5 24 ⇨  
वसंत सखा  
कामदेव 773.12  
वसंता  
वसंता 126'58  
वसंती  
वसंती 289.55  
युवा 231.12  
वसत्, कालीन 52 3  
वसंतोत्सव  
वसतोत्सव 57.24 ⇨  
होली 57.30  
वसंतोन्माद  
वसतोन्माद 354 10 ⇨  
वसती  
मठ 745.7  
वसन  
परिधान 583.1  
वस्त्र 579 1  
वसनहीनता  
नग्नता 590.1  
वसना  
करधनी 228.7  
वसा  
देह मल सूची 215.2  
वसा 132.4 ⇨  
स्निग्ध्य सूची 196 2

वसाढ्यक  
सूँस 124.12  
वसामुक्त  
वसाहीन 132.23  
वसामुक्त  
वसामुक्त 132.22 ⇨  
वसाहीन  
वसाहीन 132.23 ⇨  
वसिष्ठ  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
ब्रह्मा पुत्र सूची 766 10  
राम. गुरु 770.8  
वसिष्ठ 789.18 ⇨  
सप्तर्षि मंडल ऋषि सूची 3 11  
सप्तर्षि महाभारत 789.13  
वसिष्ठ संहिता  
वसिष्ठ स्मृति 740.58  
वसिष्ठ स्मृति  
वसिष्ठ स्मृति 740.58 ⇨  
वसीयत  
उत्तराधिकार पत्र 623 14  
वसीयत करना  
उत्तराधिकार देना 623 21  
वसीयत कर्ता  
उत्तराधिकार दाता 623 13  
वसीयतनामा  
उत्तराधिकार पत्र 623.14  
वसीयत लिखना  
उत्तराधिकार देना 623 21  
वसीयती  
उत्तराधिकारीय 623.23  
वसीला  
सहायता 700.11  
वसुंधरा  
पृथ्वी 9.1  
वसुंधरा 774.82 ⇨  
वसुंधराधर  
पर्वत 16.3  
वसु  
आठ. उपमान सूची 948 32  
कुबेर 779 4  
जल 88 1  
धन 628.1  
रत्न 96 1  
वसु 777.5 ⇨  
वसु 787.19 ⇨  
वसु माता 777.7  
विश्वेदेव सूची 777 10  
विष्णु 768 1  
वसु (अवतार)  
भीष्म 771 77  
वसु गणः माता  
वसु 787 19  
वसुचारुक  
स्वर्ण 95 4  
वसुदेव  
कृष्ण. पिता 771.5  
वसु 777.5  
वसुदेव 771.86 ⇨  
वसुदेव नंदन  
कृष्ण 771.1  
वसुदेवः पत्नी  
रोहिणी 771.85  
वसुदेवः पिता  
शूरसेन 771 92  
वसुदेव्या  
नवमी 44.15  
वसुधर  
विष्णु 768.1  
वसुधा  
पृथ्वी 9.1  
राज्य 881.5  
लक्ष्मी 775.1  
वसुधाधर  
विष्णु 768.1  
वसुधान  
धन दान 641.12  
वसुधामा  
शिव 767 1  
वसुधारा  
आकाश गंगा 1 14  
कुबेर नगर अलकापुरी 779 8  
धन दान 641 12  
वसुपाल  
राजा 882 6  
वसुः पिता  
वसुः पिता 777.6 ⇨  
वसुगद  
कुबेर 779.4  
धनप्रद 628.27  
वसुमती  
पृथ्वी 9 1  
वसुमती सुनु  
नरक 259.6  
वसुः माता  
वसुः माता 777.7 ⇨  
वसुरुषि  
गंधर्व सूची 778.5  
वसुर्षिद  
धनाढ्य 626.14  
वसु विषयक  
वसु विषयक 777.16 ⇨  
वसुश्रेष्ठ  
चाँदी 95.3  
वसुश्रेष्ठ (बाल कालः नाम)  
कार्ज 771.47  
वसु संपत्ति  
धन संपत्ति 624.10  
वसुस व  
भीष्म 771.77  
वसुस  
उगाहा [उगाही] 634.24  
वसुस करना  
उगाही करना 634.17  
वसुसना  
उगाही करना 634.17

छीनना 635.13  
 वसूलयाव  
 उगाहा [उगाही] 634.24  
 वसूलयावी  
 उगाही 634.1  
 वसूलबाना  
 प्राप्त कराना 637.5  
 वसूली  
 उगाही 634.1  
 प्राप्ति 637.2  
 वस्त  
 कटि 147.7  
 वस्तु 666.1  
 वस्ति  
 एनीमा 216.11  
 नामि मूल 148.5  
 पेड़ 148.9  
 वस्ति कोश  
 मुन्नाशय 152.6  
 वस्तु  
 उत्पाद 546.1  
 जड़ पदार्थ 78.5  
 वस्तु 666.1 ⇨  
 वाक्य विषय 424.6  
 वृत्तात 449.14  
 सामान 666.3  
 वस्तुगत  
 वास्तविक 820.23  
 वस्तु ज्ञान  
 विज्ञान 307.1  
 वस्तुगत  
 सत्यतः 820.25  
 वस्तुता  
 वास्तविकता 820.13  
 वस्तु निर्देश  
 कथा सुचना 466.15  
 वस्तुनिष्ठ  
 तथ्यात्मक 820.24  
 वस्तुनिष्ठता  
 तथ्यात्मकता 820.15  
 वस्तु भेद  
 विपरीतता 310.2  
 वस्तुः माता  
 अरुंधती 787.9  
 वस्तु रचना  
 कथावस्तु विकास 466.8  
 वस्तु विनिमय  
 वस्तु विनिमय 636.5 ⇨  
 वस्तु विषयक  
 वस्तु विषयक 666.10 ⇨  
 वस्तुशून्य  
 अवास्तविक 821.20  
 तथ्यहीन 821.22  
 वस्तु संभार  
 कथावस्तु विकास 466.8  
 वस्तु समूह  
 राशि 666.2  
 समुच्चय 666.1

वस्तु स्थिति  
 परिस्थिति 69.5  
 वस्त्र  
 उत्तरीय 585.7  
 परिधान 583  
 वस्त्र 579.1 ⇨  
 वस्त्र उद्योग  
 बुनाई उद्योग 576.15  
 वस्त्रः कटपीस  
 वस्त्र कटपीस 579.23 ⇨  
 वस्त्र गोपन  
 चौंसठ कला सूची 397.4  
 वस्त्रः चौकाई  
 वस्त्र चौकाई 579.20 ⇨  
 वस्त्र दूकान  
 वस्त्र दूकान 576.20 ⇨  
 वस्त्र धारण  
 परिधानन 589.2  
 सोलह सिंगार सूची 222.3  
 वस्त्र पुत्रिका  
 गुड़िया 480.7  
 वस्त्र प्रक्षालक  
 घोबी 220.6  
 वस्त्र प्रक्षालन  
 वस्त्र प्रक्षालन 220.4 ⇨  
 वस्त्र बंध  
 नाड़ा 571.10  
 वस्त्र बाज़ार  
 वस्त्र बाज़ार 576.19 ⇨  
 वस्त्र भंडार  
 वस्त्र दूकान 576.20  
 वस्त्र रंजन  
 रंगरेज़ी 578.1  
 वस्त्रः लंबाई  
 वस्त्र लंबाई 579.21 ⇨  
 वस्त्र विक्रय  
 वस्त्र व्यापार 576.18  
 वस्त्र विक्रेता  
 वस्त्र विक्रेता 576.21 ⇨  
 वस्त्र वेधम  
 तंबू 600.19  
 वस्त्र व्यवसाय  
 वस्त्र व्यापार 576.18  
 वस्त्र व्यापार  
 वस्त्र व्यापार 576.18 ⇨  
 वस्त्र सायबान  
 वस्त्र सायबान 615.4 ⇨  
 वस्त्रहीन  
 नग्न 590.16  
 वस्त्रहीनता  
 नग्नता 590.1  
 वस्त्रांचल  
 पलाव 586.24  
 वस्त्रांत  
 कमी 571.33  
 वस्त्रागार  
 वस्त्र दूकान 576.20

वस्त्राच्छाद  
 वस्त्राच्छाद 593.2 ⇨  
 वस्त्राभरण  
 षोडशोपचार सूची 750.4  
 वस्त्राभूषण  
 वेश 589.1  
 वस्त्राभूषण संहित कन्या दान  
 ब्राह्म विवाह 799.27  
 वस्त्रालय  
 वस्त्र दूकान 576.20  
 वस्त्रीय  
 वस्त्रीय 579.24 ⇨  
 वस्त्रोपहार  
 उपहार परिधान 583.22  
 वस्त्र  
 मधु यामिनी 800.33  
 मिलन 389.1  
 वहंत  
 सघल वायु 85.4  
 वह  
 ईश्वर 764.1  
 वह 316.14 ⇨  
 -वह  
 वाहक 1061.20  
 वह  
 वैसा 317.31  
 वह (बोलचाल)  
 पत्नी 803.6  
 वहति  
 वायु 85.1  
 वहद्यत  
 अद्वैत भाव 752.8  
 ईश्वर अद्वैतता 764.5  
 वहद्यते जुहुत  
 एकेश्वरवाद 760.16  
 वह दुनिया  
 परलोक 258.12  
 वहन  
 वहन 1061.1 ⇨  
 वहन करना  
 वहन करना 1061.15 ⇨  
 वहन कर्ता  
 वाहक 1061.20  
 वहन क्षमता  
 भार क्षमता 966.5  
 वहन भाड़ा  
 माल भाड़ा 622.12  
 वहन यान  
 वहन यान 1071.19 ⇨  
 वहनीय  
 वाहनीय 1061.19  
 वहनीय होना  
 जंगम होना 1037.12  
 वह भाव  
 इतरता 945.2  
 वहम  
 गलत क्रहमी 341.4  
 भ्रम 342.1

भ्रम दर्शन 342.3  
 रोग भ्रम 353.7  
 वहम का पुतला  
 संदेहशील 341.10  
 वहमी  
 संदेहशील 341.10  
 वहल  
 बैल 127.13  
 भार पशु 127.5  
 भार वाहक बैल 127.15  
 वह वह  
 अमुक अमुक 316.23  
 वहवी  
 ईश्वर प्रदत्त 764.37  
 वहरात  
 वन्यता 734.5  
 वहरातनाक  
 विकराल 154.23  
 वहशियाना  
 वन्यतापूर्ण 734.17  
 वहशी  
 वन्यतापूर्ण 734.17  
 वन्य पशु 127.2  
 वहशीपन  
 वन्यता 734.5  
 वहाँ  
 उधर 30.8  
 वहाँ 30.7 ⇨  
 सीमा के उस पार 1001.46  
 वहाँ नहीं  
 अन्यत्र 30.9  
 वहाँ पर  
 उधर 30.8  
 वहाँ यहाँ  
 चतुर्दिशतः 29.36  
 वहा  
 धारा 21.14  
 वहाबी  
 वहाबी 736.7 ⇨  
 वहिन्न  
 यान 1070.1  
 वहिनी  
 नौका 1072.2  
 वहिर्निष्कर्षण  
 उद्घेयन 1017.2  
 वहाँ  
 लक्ष्य पर 931.26  
 वहाँ रहना  
 स्थावर होना 1038.4  
 वही  
 अनेतर 945.6  
 अपरिवर्तित 533.9  
 वैसा 317.31  
 वहीव  
 अद्वैत ईश्वर 764.8  
 वही समय  
 समकाल 59.1

## वहिन

### वहिन

- अग्नि 106 1  
मरुत 781 1  
सोम देव 773 49  
वहिन कोण  
दक्षिण पूर्व 29 17  
वहिनमुख  
देवता 772 1  
वहिनरेता  
शिव 767 1  
वहिन बधु  
स्वाहा 774 104  
वहनीश्वरी  
लक्ष्मी 775.1  
वहय  
वाहनीय 1061 19  
वौ (फ्रां)  
वाइन 209 15  
वांछक  
अपेक्षा कर्ता 359 26  
आवश्यकता ग्रस्त 524 21  
इच्छुक 359.21  
वांछनीय  
अपेक्षणीय 359 25  
इच्छनीय 359 20  
रोचक 400 12  
सुंदर 157 7  
वांछनीयता  
अवसरानुकूलता 70.2  
वांछा  
अपेक्षा 359 3  
इच्छा 359 1  
वांछा करना  
इच्छा होना 359 10  
वांछा कर्ता  
इच्छुक 359 21  
वांछा न करना  
इच्छा न करना 360 6  
वांछापूर्य  
इच्छापूर्य 359 18  
वांछित  
अपेक्षित 359.24  
आवश्यक 524 20  
वांछित [वांछिता]  
इच्छित 359.19  
वांछिततः  
प्रत्याशितत 941.12  
वांछितव्य  
इच्छनीय 359.20  
वांछी  
अपेक्षा कर्ता 359.26  
वांछी [वांछिनी]  
इच्छुक 359.21  
वांछय  
अपेक्षणीय 359.25  
इच्छनीय 359.20  
स्वागत योग्य 1059.26

### वांत

- वमित 215 32  
वमित पदार्थ 215 25  
वांतरिक्ष  
विमानन आकाश 1081 35  
वांताभ्र  
वमित पदार्थ 215.25  
वांशिक  
कुलीय 726.17  
बॉसुरी वादक 461.64  
सहवंशी 727 30  
वांशिकता  
आनुवंशिकता 727 17  
वा  
अथवा 945 13  
और 945 10  
वाइज़  
धर्म उपदेशक 742 22  
वाइज़ 744.25 ⇨  
वाइटामिन (अँ)  
विटामिन 179 16  
वाइन  
वाइन 209.15 ⇨  
वाइन (अँ)  
अंगूर मद्य 209 4  
वाइन 209 15  
वाइनिल (अँ)  
रासायनिक वस्त्र सूची 579 15  
वाइपर (अँ)  
गैडुअन 123 20  
वाइरस (अँ)  
रोगाणु 122.5  
वाइस (अँ)  
सहकारी कर्मचारी 652.31  
वाइस चांसलर (अँ)  
उप कुलपति 323 14  
वाइस प्रिज़िडेंट (अँ)  
उप राष्ट्रपति 882 3  
उप सभापति 694.19  
वाइसराय  
प्रतिनिधि सूची 888.27  
वाई क्रोमोसोम  
वाई क्रोमोसोम 130.4 ⇨  
वाई क्रोमोसोम (अँ)  
वाई क्रोमोसोम 130.4  
वाउचर  
शउचर 832.29 ⇨  
वाउचर (अँ)  
पे आर्डर 832.27  
वाउचर 832.29  
वाक  
वाक्य 424.1  
वाक्य  
वास्तविक 820.23  
सत्यतः 820.25  
वाक्य  
स्थित 1020.8

### वाक्या

- अपराध घटना 861 2  
घटना 75 1  
वाक्यात  
तथ्य 820 14  
वाक्रीआती  
घटनामूलक 75 10  
वाक्रीक  
ज्ञानी 305 30  
परिचित 704 19  
परिज्ञाता 305 33  
वाक्रीकार  
परिचित 704 19  
वाक्रीकारि  
परिचय स्थापना 704 3  
वाक्रीक्रीयत  
परिचितता 704 1  
वाक्रीया  
दुर्घटना 168 2  
वृत्तात 449 14  
वाकीटाकी  
वाकीटाकी 300 23 ⇨  
वाकीटाकी (अँ)  
वाकीटाकी 300.23  
वाक्रीअ  
घटनामूलक 75.10  
घटित 75 11  
वाकोपवाक  
वार्तालाप 435 1  
वाकोपवाक्य  
तर्क 325.1  
वार्तालाप 435.1  
वाकलह  
तकरारी 708.7  
वाकलह कर्ता  
तकरारी 708.14  
वाकलिस  
नोकझोंक 385 8  
वाक् चपल  
वाचाल 428.22  
वाकल  
बहाना (मकर) 495.4  
शब्दांडंबरपूर्ण तर्क 325.6  
वाक्यदु  
वाग्विलासी 421.36  
वाद विवाद कुशल 324.26  
वार्तालाप कुशल 435.25  
वाक्यदुता  
वाग्विलास 421.20  
वाक्यपति  
बृहस्पति 789.22  
वार्तालाप कुशल 435.25  
विद्वान व्यक्ति 319.2  
वाक्याच्छब्द  
कर्कश स्वरीयता 299.11  
वाक् प्रतिक्रम  
वाक् प्रतिक्रम 429.9 ⇨

### वाक्य रसात्मक काव्यम्

- काव्य 451 7  
वाक्य  
आज्ञा 347 1  
वाक्य 424.1 ⇨  
वाक्य अंग  
वाक्यांग 424.4  
वाक्य अन्वय  
वाक्य अन्वय 427.4 ⇨  
वाक्य खंड  
उपवाक्य 424.10  
वाक्य खंडन  
खंडन 326 3  
वाक्य दोष  
वाक्य दोष 453.8 ⇨  
वाक्य पूर्ति  
वाक्य पूर्ति 424 3 ⇨  
वाक्य रचना  
वाक्य रचना 424.2 ⇨  
वाक्य वक्र  
कटु वचन 432 3  
वाक्य विन्यास  
वाक्य रचना 424.2  
वाक्यः विराम  
वाक्य. विराम 425.30 ⇨  
वाक्य विषय  
वाक्य विषय 424.6 ⇨  
वाक्य वृत्ति  
वाक्य शक्ति 426.7  
वाक्य व्यापार  
वाक्य शक्ति 426.7  
वाक्य शक्ति  
वाक्य शक्ति 426.7 ⇨  
वाक्य समूह  
प्रकरण 424.7  
वाक्यांग  
वाक्यांग 424.4 ⇨  
वाक्यांग सूची  
वाक्यांग सूची 424.5 ⇨  
वाक्यांश  
वाक्यांश 424.9 ⇨  
वाक्यांडंबर  
अलंकृत भाषा 421.21  
शब्दांडंबर 421.28  
वाक्यसंयम  
अवाचालता 429.6  
वाक्यसंयमी  
अवाचाल 429.26  
मुनि 789.15  
वाक्यसंयम  
निरुत्तरता 335.2  
वाग्विषय  
वाग्विलासी 421.36  
वाग्वत्  
वचन रंग कर्ता 336.48  
वाग्वत्प्रति  
वाग्विलास सूची 793.16

वागिन्द्रिय	विद्वान् 319.8	सभा सचालक 694.20	वाचा संयमी
वाचा 299.1	विष्णु 768.1	वाचस्पति	अवाचाल 429.26
वागीश	वाग्यम्	प्रजापति 787.1	वाचाहीन
बृहस्पति 789.22	मुनि 789.15	बृहस्पति 789.22	वाचाहीन 429.25 ⇌
ब्रह्मा 766.1	वागवप्र	ब्रह्मा 766.1	वाचाहीनता
वाग्विलासी 421.36	कटु वचन 432.3	वाग्विलासी 421.36	वाचाहीनता 429.5 ⇌
विद्वान् व्यक्ति 319.2	वाग्वित्तडा	वाचस्पति उपाधि 322.30	वाचाहीन होना
शिव 767.1	तकरार 708.7	विद्वान् व्यक्ति 319.2	वाचाहीन होना 129.16 ⇌
वागीशा	वाग्वित्तडी	विष्णु 768.1	वाचिक
सरस्वती 775.8	वितडावादी 324.27	शिव 767.1	मीशिक 412.43
वागीश्वर	वाग्विलास	सोम देव 773.49	वाचीय 299.21
अच्छा कवि 448.15	बतरस 435.8	वाचस्पति उपाधि	वाचिक अभिनय
कवि 448.13	वाग्विलास 421.20 ⇌	वाचस्पति उपाधि 322.30 ⇌	सवाद उच्चारण 465.8
बृहस्पति 789.22	वाग्विलासी	वाचा	वाचिक ध्वनि
ब्रह्मा 766.1	बतरसिया 435.29	इन्द्रिय सूची 268.2	उच्चारण 411.1
वाग्विलासी 421.36	वाग्विलासी 421.36 ⇌	वचन 339.15	वाचित
विद्वान् व्यक्ति 319.2	वाग्विलासी (दे.)	वचनबद्धत 339.52	अभिव्यक्त 428.17
वागीश्वरी	वार्तालाप कुशल 435.25	वाचा 299.1 ⇌	कथित 430.16
राग रागिनी सूची 457.24	वाग्वैदग्ध्य	व्याकृता वाचा 299.2	वाचित करना
सरस्वती 775.8	वाग्विलास 421.20	शपथ 339.20	कहना 430.11
वागुरा	वागव्यापार	सरस्वती 775.8	-वाची
पशु पाश 1013.12	भाषा शैली 421.18	वाचा (दे.)	अर्थ द्योतक 427.23
वागुरिक	वाङ्मय	भाषा 421.1	वाची
पशु आखेटक 252.13	भाषीय 421.29	वाचा इन्द्रिय	कथन कर्ता 430.18
वाग्विधरी	वाचीय 299.21	वाचा तंत्र 145.13	वाचीय
कुंडलिनी 757.1	शब्दावली 421.19	वाचाट	वाचीय 299.21 ⇌
वाग्जकता	साहित्य 450.1	बातूनी 435.28	वाचेंद्रिय
वाचारुद्धता 429.8	वाङ्मयी	वाचा तंत्र	कर्मेंद्रिय सूची 268.8
वाग्जाल	सरस्वती 775.8	वाचा तंत्र 145.13 ⇌	वाचा 299.1
शब्दाडंबर 421.28	वाचंयम्	वाचारुद्ध	वाचा तंत्र 145.13
शब्दाडंबरपूर्ण तर्क 325.8	अवाचाल 429.26	वाचारुद्ध 429.27 ⇌	वाचेतर ध्वनि
वाग्दंड	वाचक	वाचारुद्धता	वाचेतर ध्वनि 296.1 ⇌
आठ अवगुण सूची 761.13	अर्थ द्योतक 427.23	वाचारुद्धता 429.8 ⇌	वाच्य
वाग्दत्त	कथन कर्ता 430.18	वाचा रोधन	कथनीय 430.17
वचन दत्त 339.40	वाचयिता 399.9	वाचा रोधन 429.7 ⇌	क्रिया वाच्य 425.6
वाग्दत्त [वाग्दत्ता]	सदेश वाहक 443.3	वाचा रोधन करना	वाच्योत्तर
वाग्दत्त [वाग्दत्ता] 799.63 ⇌	वाचक पद	वाचा रोधन करना 429.18 ⇌	भाष्य 427.11
वाग्दत्ता	उपमा अलंकार अग सूची 454.5	वाचाल	वाच्यार्थ
वचन दाता 339.41	संज्ञा 425.14	डींगबाज़ 842.15	अभिधार्थ 426.4
वाग्दान	वाचक शब्द	प्रलापी 428.24	वाज़
वाग्दान 800.47 ⇌	संज्ञा 425.14	इहिरभिमुखी 837.15	इसलामी धर्मोपदेश 742.8
वाग्दान करना	वाच टावर (अँ)	बातूनी 435.28	धर्म उपदेश 742.5
वाग्दान करना 799.55 ⇌	पहरा मीनार 908.7	वाचाल 428.22 ⇌	वाज़
वाग्दुष्ट	वाचन	वाचालता	पंख 151.1
कटुभाषी 432.12	पठन 321.27	इहिरभिमुखता 837.6	बाण पंख 926.20
वाग्देवी	संज्ञापन 441.7	बातूनीपन 435.7	यज्ञ 753.1
कला देवी 397.2	सस्वर वाचन 399.8	वाचालता 428.5 ⇌	वाज़
कुंडलिनी 757.1	वाचन करना	वाचाल न होना	वाइज़ 744.25
सरस्वती 775.8	वाचन करना 399.19 ⇌	वाचाल न होना 429.17 ⇌	वाज़
वाग्दोष	वाचन कर्ता	वाचाल पक्षी	वेग 1042.9
वाक्य दोष 453.8	वाचयिता 399.9	वाचाल पक्षी 126.10 ⇌	वाज़
वाग्बद्ध	वाचनालय	वाचाल पक्षी सूची	सीख 332.6
वाचाबद्ध 429.27	वाचनालय 689.15 ⇌	वाचाल पक्षी सूची 126.11 ⇌	वाजपेय यज्ञ
वाग्भिला	वाच पाकिट (अँ)	वाचाल होना	यज्ञ सूची 753.2
विद्वत्ता 319.1	टिकट पाकिट 672.2	वाचाल होना	वाजश्रवा
वाग्नी	वाचयिता	वाचाल होना 428.12 ⇌	अग्नि 106.1
वाग्विलासी 421.36	अध्यापक 323.8	वाचा संयम	वाजिनी
वाचाल 428.22	वाचयिता 399.9 ⇌	अवाचालता 429.6	उचा 774.14

## वाजिब

मादा घोड़ा 127.36

### वाजिब

आवश्यकतानुकूल 524 22

घेघ 878.26

सगत 438 6

### वांजी

इंद्र 773.5

घोड़ा 127 35

दुतगामी [दुतगामिनी] 1044 7

पनीर जल 193 15

बाण 926.16

वीर 396 6

शक्तिशाली 487 20

### वाजीकर

शक्ति वर्धक 487 23

### वाजीकरण

शक्ति वर्धन 487.3

### वाजीकरण तंत्र

आयुर्वेद आठ अंग सूची 172 7

### वाजीमेध

अश्वमेध 754 13

### वाज्रेह

सजात 441.18

### वाज्रोपंद

इसलामी धर्मोपदेश 742 6

### वाट

काष्ठ 148 10

सङ्क 1063 33

वाट: 746

अश्वबल 101.4

### वाटर कलर

वाटर कलर 290 7 ⇌

### वाटर कलर (अं)

वाटर कलर 290 7

### वाटर पोली

वाटर पोली 477.8 ⇌

### वाटर पोली (अं)

वाटर पोली 477 8

### वाटरप्रूफ (अं)

जलरुद्ध 89.12

### वाटर प्रूफिंग (अं)

जल रोधन 89 5

जल रोधन 920 7

### वाटर मार्क

वाटर मार्क 419.7 ⇌

### वाटर मार्क (अं)

वाटर मार्क 419 7

### वाटर लैबल (अं)

जल उतारल 985.5

### वाटर बर्नर्स (अं)

जल यंत्रालय 19.2

### वाटर सफ़िंग (अं)

सफ़िंग 477 16

### वाटिका

उपवन 12.11

### वाटी

भवन 602 7

### वाडब

नरक सूची 259 7

### वाडव

बड़वा दीप्ति 287 18

ब्राह्मण 731 13

### वाडवेय

अश्विनी कुमार 773 3

### वाडा

क्षेत्र 34 1

महल्ला 619 6

### वाणिज्य

विपणन 658.1

व्यापार 657 1

### वाणिज्य द्रव्य

पण्य सामान 866 5

### वाणिज्य पोत

माल पोत 1072.35

### वाणिज्य मंडल

व्यापार सघ 692.17

### वाणिज्यिक

व्यापारीय 657 16

### वाणिज्यीय

व्यापारीय 657 16

### वाणी

उक्ति 434 1

कविता 451.16 ⇌

पद्य 451 4

भाषा 421 1

वचन 339.15

वाचा 299.1

व्याकृता वाचा 299 2

सरस्वती 775.8

सुक्ति 434 2

### वाणी देना

कहना 430.11

### वाणी: देवता

बृहस्पति 789 22

### वाणी दोष

स्वर विकार 299.9

### वाणीय

वाणीय 299.21

### वाणी संयम

अवाचालता 429.6

### वाणी स्खलन

हकलाहट 299 18

### वाणीहीन

वाचाहीन 429 25

### वात

गैस 86.1

मरुत 781.1

वात रोग 163.22

वायु 85.1

सघल वायु 85.4

### वात (वै.)

त्रिदोष सूची 215.13

### वात अनुतरंग

अनुवात 867.9

### वात अवस्था

गैसीय अवस्था 79.3

### वात इंजन

गैस इंजन 1078.4

### वात कूप

वात कूप 608.21 ⇌

### वातकेतु

धूलि 100 4

धूलि पुंज 100 6

### वात गुल्म

चक्रवात 85.10

### वात चक्र

चक्रवात 85 10

### वात तरण

ग्लाइडिंग 1081 21

### वात दर्शाक

हवाई मुरगा 85 34

### वात दिग्दर्शाक

वात दिशा यंत्र 85 33

### वात दिग्दर्शित्र (प्र)

वात दिशा यंत्र 85 33

### वात दिशा यंत्र

वात दिशा यंत्र 85.33 ⇌

### वातध्वज

मेघ 55 1

### वात परिरक्षी

विंडस्क्रीन 85 32

### वात प्रकोप

वात रोग 163 22

### वात भँवर

भँवर वात 85 11

### वात यान

वात यान 1074.15 ⇌

### वातरंग

पीपल 13 14

### वात रोग

वात रोग 163.22 ⇌

### वातरोध

प्रतिवातित्र 85.31

### वात रोधक

प्रतिवातित्र 85.31

### वात रोधन

वात रोधन 920.11 ⇌

### वात वारण

वात रोधन 920 11

### वात वाहित

वायुवाहित 1041.10

### वात रूंध

चक्रवात 85.10

### वाता

वायु 85.1

### वाताधिष्य

वात रोग 163.22

### वातानुकूलक

वातानुकूलित्र 105.5

### वातानुकूलित्र

वातानुकूलित्र 105.5 ⇌

### वातानुतापन

वातानुतापन 104.9 ⇌

### वातानुतापित्र

वातानुतापित्र : 10.10 ⇌

### वातानुतापित्र (प्र)

वातानुतापित्र 104 10

### वातानुशीतित्र (प्र)

एयरकूलर 105 6

### वातापि

दानव सूची 783.13

राक्षस सूची 784.4

### वाताम

बादाम 191.10

### वाताम बदर

आलू बुखारा 191.3

### वातायन

खिचकी 608 17

घोड़ा 127 35

वातायन 608.14 ⇌

### वातायनी

रोशनदान 608 20

### वातायु

हिरन 127 42

### वातारि

एरंड 196 16

### वाताली

चक्रवात 85 10

तूफान 85 8

### वातावरण

जलवायु 51.1

परिस्थिति 69 5

वायु मंडल 2.8

### वातावरण को पीछे छोड़ना

अंतरिक्ष गमन करना 1081.49

### वातावर्त

चक्रवात 85.10

### वाताशी

सर्प 123.10

### वातास

बयार 85.14

वायु 85.1

### वाति

गैस 86.1

### वातित्र (प्र)

कनवैक्टर 85.30

### वातुल

चक्रवात 85.10

पागल 354.24

### वातुलता

पागलपन 354.14

वातोन्याद 354.11

### वातोत्पात

आँधी पानी 85.7

### वातोन्याद

वातोन्याद 354.11 ⇌

हिस्टीरिया 353.8

### वात्वा

आँधी धूल 85.6



चक्रवात 85.10  
 तूफान 85.8  
 फूंक 245.12  
 सघल वायु 85.4  
**वात्सारिक**  
 खगोल विज्ञानी 1.5  
 वर्षीय 42.27  
**वात्सल्य**  
 ममता 721.2  
 वात्सल्य 721.1 ⇨  
 स्नेह 368.10  
 स्वजन भावना 725.2  
**वात्सल्यपूर्ण**  
 वात्सल्यपूर्ण 721.12 ⇨  
**वात्सल्य भाव**  
 वात्सल्य भाव 752.17 ⇨  
**वात्सल्य रस**  
 वात्सल्य रस 455.17 ⇨  
**वात्स्यायन**  
 ऋषि मुनि सूची 789.17  
**वाद**  
 अभियोग 875.3  
 तर्क 325.1  
 दार्शनिक प्रणाली 780.4  
 परिघर्षा 436.3  
 मुकदमा 875.1  
 वाद 343.10 ⇨  
 वाद प्रस्तुति 324.8  
 वाद विवाद 324.3  
 सिद्धांत 343.9  
**वाद उत्तर**  
 प्रतिवाद 324.10  
**वादक**  
 कथन कर्ता 430.18  
 वादक 461.2 ⇨  
 संगतिया 461.4  
 संगीतज्ञ 457.3  
**वादक दल**  
 वादक मंडली 461.6  
**वादक मंडली**  
 वादक मंडली 461.6 ⇨  
 वाद्य समूह 461.7  
**वादक मंडली: नायक**  
 संगीत संचालक 460.4  
**वादकर**  
 मुकदमेबाज़ 875.24  
**वाद कर्ता**  
 वाद प्रस्तोता 324.9  
**वादक वृंद**  
 वादक मंडली 461.6  
**वाद कुशल**  
 वाद विवाद कुशल 324.28  
**वादग्रस्त**  
 अनिर्धारित 328.15  
 दुर्बिधाजनक 501.9  
 विवादित 324.23  
**वाद ईंड**  
 कमानचा 461.93

**वादन**  
 वादन 461.1 ⇨  
**वादन स्थल**  
 वादन स्थल 461.5 ⇨  
**वाद निर्णय**  
 न्याय निर्णय 877.14  
**वादपत्र**  
 वाद पत्र 875.2  
**वाद पत्र**  
 वाद पत्र 875.2 ⇨  
**वाद प्रतिवाद**  
 उत्तर प्रत्युत्तर 334.5  
**वाद प्रस्तुति**  
 वाद प्रस्तुति 324.8 ⇨  
**वाद प्रस्तोता**  
 वाद प्रस्तोता 324.9 ⇨  
**वाद सिंदु**  
 वाद विषय 437.8  
**वादरायण**  
 वेद व्यास 789.21  
**वादरि**  
 वेद व्यास 789.21  
**वाद विवाद**  
 वाद विवाद 324.3 ⇨  
 विवाद 324.1  
**वाद विवाद करना**  
 वाद विवाद करना 324.19 ⇨  
**वाद विवाद कर्ता**  
 वाद विवाद कर्ता 324.25 ⇨  
**वाद विवाद कुशल**  
 वाद विवाद कुशल 32-26 ⇨  
**वाद विवाद प्रतियोगिता**  
 वाद विवाद प्रतियोगिता 324.4 ⇨  
**वाद विवादी**  
 वाद विवाद कर्ता 324.25  
**वाद विषय**  
 वाद विषय 437.8 ⇨  
**वाद समाधान**  
 नैयायिक निपटारा 877.11  
 विवाद समाधान 877.4  
**वाद सिद्धि**  
 वाद सिद्धि 877.1 ⇨  
**वाद सुनना**  
 मुकदमा सुनना 876.22  
**वादहीन**  
 मतहीन 344.11  
**वादहीनता**  
 निर्विवादता 324.2  
 मतहीनता 344.2  
**वादा**  
 अनुबंध 339.1  
 प्रतिज्ञा 339.17  
 वचन 339.15  
**वादा करना**  
 वचन देना 339.27  
**वादा खिलाफ़**  
 वचन भंग कर्ता 338.48

**वादा खिलाफ़ी**  
 वचन भंग 338.16  
**वादा निभाना**  
 वचन पालना 339.28  
**वादानुगमन**  
 अनुगमन 345.2  
**वादानुगामिता**  
 अनुगामिता 345.1  
**वादानुवाद**  
 वाद विवाद 324.3  
**वादा क्ररामोहा**  
 वचन भंग कर्ता 338.48  
**वादा क्ररामोशी**  
 वचन भंग 338.16  
**वादा ब्रह्मा करना**  
 वचन पालना 339.28  
**वादा शिकन**  
 वचन भंग कर्ता 338.48  
**वादा शिकनी**  
 वचन भंग 338.16  
**वादिक**  
 वाद प्रस्तोता 324.9  
 वार्तालाप कर्ता 435.24  
**वादित**  
 ध्वनित 294.21  
 वादित 461.105 ⇨  
**वादिता**  
 अनुगामिता 345.1  
**वादित्र**  
 वाद्ययंत्र 461.11  
**वादिश**  
 सत्यवादी 820.22  
**वादी**  
 अनुगामी 345.7  
 अभियोक्ता 875.1  
 कथन कर्ता 430.18  
 कथा वाचक 399.11  
 घाटी 16.16  
 प्रवक्ता 441.25  
 प्रार्थी 350.18  
 मुकदमेबाज़ 875.24  
 वाद प्रस्तोता 324.9  
 वादी स्वर 459.21  
 संगतिया 461.4  
 संबोधन कर्ता 430.26  
 सभा संचालक 694.20  
**वादी स्वर**  
 वादी स्वर 459.21 ⇨  
**वादे का पक्का**  
 दृकप्रतिज्ञा 339.45  
**वाद्य**  
 चौसठ कला सूची 397.4  
 वादन 461.1  
 वाद्ययंत्र 461.11  
**वाद्यक**  
 वाद्ययंत्र 461.11  
**वाद्यकर**  
 वादक 461.2

**वाद्य कुंजी**  
 वाद्य कुंजी 461.94 ⇨  
**वाद्य खूँटी**  
 वाद्य खूँटी 461.95 ⇨  
**वाद्य गत**  
 वाद्य गत 458.10 ⇨  
**वाद्य तार**  
 वाद्य तार 461.97 ⇨  
**वाद्यधर**  
 वादक 461.2  
 संगतिया 461.4  
**वाद्य ध्वनि**  
 वाद्य ध्वनि 296.6 ⇨  
**वाद्य परदा**  
 वाद्य परदा 461.99 ⇨  
**वाद्य पर सरगम वादन**  
 वाद्य गत 458.10  
**वाद्य बजाना**  
 बजाना 461.103  
**वाद्ययंत्र**  
 वाद्ययंत्र 461.11 ⇨  
**वाद्ययंत्र: प्रकार सूची**  
 वाद्ययंत्र प्रकार सूची 461.12 ⇨  
**वाद्य वादन**  
 वादन 461.1  
**वाद्य वृंद**  
 वाद्य समूह 461.7  
**वाद्य संगत**  
 वाद्य संगत 461.3 ⇨  
**वाद्य संगीत**  
 वादन 461.1  
 वाद्य संगीत 457.4 ⇨  
**वाद्य समूह**  
 वाद्य समूह 461.7 ⇨  
**वाधित**  
 वादित 461.105  
**वान**  
 गहन वन 12.7  
 वाना 576.9  
 बुनाई कर्म 576.1  
 वन समूह 12.2  
 वैन 1071.61  
**-वान [-वती]**  
 सहित प्रत्यय सूची 1006.5  
**वानक**  
 ब्रह्मचर्य आश्रम 234.1  
**-वानता (हिंदी)**  
 सहितता 1006.1  
**वानप्रस्थ**  
 वानप्रस्थ आश्रम 233.4  
**वानप्रस्थ आश्रम**  
 चार आश्रम सूची 233.3  
 वानप्रस्थ आश्रम 233.4 ⇨  
**वानप्रस्थ आश्रमी**  
 वानप्रस्थ आश्रमी 233.10 ⇨  
**वानप्रस्थ प्रदेश**  
 वानप्रस्थाश्रम प्रदेश 233.5

## वानप्रस्थाश्रम प्रवेश

### वानप्रस्थाश्रम प्रवेश

वानप्रस्थाश्रम प्रवेश 233.5 ⇨

### वानप्रस्थी

वानप्रस्थ आश्रमी 233 10

### वानप्रस्थ्य

वानप्रस्थ आश्रम 233.4

### वानर

वानर 127.89 ⇨

वानर (मरुत) 781.5

वानर विकास क्रम 127.94

वानरीय 781.21

### वानर (दे.)

बदर 127.86

### वानर (मरुत)

वानर (मरुत) 781.5 ⇨

### वानर कूद

शाखा कूद 1086.13

### वानरकेतु

अर्जुन 771.36

### वानर पात्र

वानर पात्र 770.56 ⇨

### वानर पात्र (दे. मरुत)

वानर पात्र 770.56

### वानर: माता

क्रोधा 787.12

### वानर विकास क्रम

वानर विकास क्रम 127.94 ⇨

### वानर विषयक

वानरीय 781.21

### वानर सूची

वानर सूची 781.7 ⇨

### वानर सेना

राम सेना 770.11

### वानर स्त्री

वानर स्त्री 781.6 ⇨

### वानरी

मादा बदर 127.87

राम सेना 770.11

वानर स्त्री 781.6

### वानरीय

वानरीय 781.21 ⇨

### वानरैन्द्र

सुग्रीव 781.17

हनुमान 781.19

### वानस्पतिक

वनस्पतीय 111.30

### वानस्पतिक तेल

वनस्पतीय तेल 196.12

### वानस्पतिक रंग

वानस्पतिक रंग 290.3 ⇨

### वानस्पत्य

पीषा 111.14

वनस्पतीय 111.30

शिव 767.1

### वानीर

एरंड 196.16

बेंत 923.8

सरकंडा 597.11

### वान्य

वन्य 12.36

### वान्या

वन समूह 12.2

### वाप

बुनाई कर्म 576.1

### वाप (जैसे: तंतुवाप)

बुनाई कर्मी 576.2

### वापक

बोने वाला 548.51

### वापन

बुआई 548.7

### वापरन

उपभोगन 524.2

### वापरना

उपभोग करना 524.10

### वापस

पुनरागत 1093.16

पुनरानीत 1053.15

पुनरावर्तित 73.4

पुनर्स्थापित 1036.15

प्रतिगत 1095.21

प्रतिनोदित 1051.35

प्रतिप्रदत्त 638.16

प्रतिप्रेषित 1054.25

प्रत्यावाहित 1055.15

### वापस उछलना

टिप्पा खाना 1052.17

### वापस करना

न लेना 639.13

वापस देना 638.11

### वापस खरीद

पुनराक्रय 600.9

### वापस खिंचना

प्रतिकर्षित होना 1051.25

### वापस खिंचना: क्रिया

प्रतिकर्षण 1051.11

### वापस खींचना

प्रतिकर्षित करना 1051.26

### वापस देना

वापस देना 538.11 ⇨

### वापस बुलाना

वापस मैंगाना 1055.9

### वापस बुलाना: कर्म

प्रत्यावाहन 1055.4

### वापस भेजना

विसर्जित करना 1054.13

### वापस भेजना: कर्म

प्रतिप्रेषण 1054.4

विसर्जन 1054.5

### वापस भेजा

विसर्जित 1054.26

### वापस मैंगाना

वापस मैंगाना 1055.9

### वापस मैंगाना: कर्म

प्रत्यावाहन 1055.4

### वापस मैंगाना

वापस मैंगाना 1055.9 ⇨

### वापस मैंगाना

प्रत्यावाहित 1055.15

### वापस मुड़ना

पीछे जाना 1095.12

### वापस मोड़

घूल्हा मोड़ 974.12

### वापस लाना

वापस लाना 1053.7 ⇨

### वापस लाना: कर्म

पुनरागमन 1053.4

### वापस ले आना

वापस लाना 1053.7

### वापसी

घूल्हा मोड़ 974.12

परश्चगति 1095.5

पीछे हटना: कर्म 916.6

पुनराक्रय 660.9

पुनरागमन 1093.5

पुनर्स्थापना 1036.7

प्रतिदान 641.7

प्रतिनोदन 1051.4

प्रतिप्रदान 638.3

प्रतिप्रेषण 1054.4

प्रत्यावाहन 1055.4

प्रत्युपहार 640.5

बधक वापसी 633.22

वापसी यात्रा 1087.3

विघात संस्कार 798.24

विसर्जन 1054.5

### वापसी पर क्रय

जाकड़ खरीद 660.8

### वापसी पर क्रीत

जाकड़ पर खरीदा 660.19

### वापसी बिक्री बही

जाकड़ बही 632.18

### वापसी यात्रा

वापसी यात्रा 1087.3 ⇨

### वापसी साकर

वापसी यात्रा 1087.3

### वापिका

छोटा तालाब 18.11

बावड़ी 19.10

### वापिस

बोया [बोई] 548.50

### वापी

तालाब 18.10

बावड़ी 19.10

बोने वाला 548.51

### वावस्तगी

संलग्नता 1010.2

स्वजन भावना 725.2

### वावस्ता

संबंधित 715.12

संलग्न 1010.18

### वाम

वामदेव 773.12

कोणयुक्त 970.12

दुर्भाग्य 260.18

प्रिय 369.7

बेईमान 816.5

वक्र 974.16

वाम पार्श्व 997.8

वाम पार्श्वीय 997.22

वाममार्ग 737.46

विरोधी 886.7

सुंदर 157.7

### वाम ग्रह

अशुभ ग्रह 261.16

### वाम चालन

लेफ्टहैंड ड्राइविंग 1067.6

### वामदेव

ऋषि मुनि सूची 789.17

शिव: वार मूर्ति सूची 746.10

### वामदेव मुख

शिव: मुख सूची 767.6

### वामदेवी

सावित्री 774.97

### वामन

ठिंगना 154.18

ठिंगना व्यक्ति 154.6

दिग्गज सूची 780.3

वामन अवतार 769.36

विष्णु 768.1

विष्णु: चौबीस अवतार सूची 769.9

विष्णु: दस अवतार सूची 769.8

### वामन अवतार

वामन अवतार 769.36 ⇨

### वामनता

ठिंगना क्रद 154.5

### वामन पुराण

पुराण सूची 740.17

### वामन: माता

अदिति 787.7

### वामनयन

वामनयन 158.24 ⇨

सुनयन 158.14

### वामनयना

वामनयना 158.25 ⇨

### वामपथ

प्रगतिवाद 884.16

वाममार्ग 737.46

### वाम पार्श्व

वाम पार्श्व 997.8 ⇨

### वाम पार्श्वीय

वाम पार्श्वीय 997.22 ⇨

### वाम पृष्ठ

वाम पृष्ठ 447.23 ⇨

### वाममार्ग

वाममार्ग 737.46 ⇨

### वाममूर्ति

वाममूर्ति 737.47 ⇨

### वाममौखन

वाममौखन 158.24

### वामनयन

वामनयना 158.25

सुनयना 158.15

**बाभरुसतला**  
**बयैहत्यापन** .487 11  
**बाभोगना**  
 पत्नी 803 6  
**बम्बा**  
 पत्नी 803.6  
 लक्ष्मी 775 1  
 सरस्वती 775.8  
 स्त्री 236 3  
**भाभावर्तन**  
 प्रतिघटी परिक्रमा 1033 6  
**भाभावर्त शंख**  
 वामावर्त शय 461.80 ⇨  
**भाभावर्ती**  
 प्रतिघटी 1033 22  
**भाभी**  
 मादा गधा 127 31  
 मादा घोडा 127 36  
 मादा हाथी 127.39  
**भाभोरु [बामोरु]**  
 सुंदर जंघा बाना 158.33  
**भाय**  
 बया 126 57  
 बुनाई कर्म 578 1  
 भाय (जैसे: संतुबाय)  
 बुनाई कर्मी 576.2  
**भायदा**  
 अनुबंध 339.1  
 वचन 339 15  
**भायन**  
 बुनाई कर्म 576 1  
**भायर (अँ)**  
 तार 569 24  
 बिजली तार 102 8  
**भायरिंग (अँ)**  
 बिजली. तार 102 8  
**भायल**  
 बायल 580 42 ⇨  
**भायल (अँ)**  
 बायल 580 42  
**भायलिन**  
 बायलिन 461.76 ⇨  
**भायलिन (अँ)**  
 बायलिन 461.76  
**भायब ब्रह**  
 गैस 86 1  
**भायबी**  
 अवास्तविक 821.20  
 भारहीन 963 12  
**भायबीय**  
 निराकार 967.13  
 भारहीन 963.12  
**भायबीयता**  
 गैसीय अवस्था 79.3  
 निराकारता 967.2  
 भारहीनता 963.3  
**भायब्य कोण**  
 उत्तर पश्चिम 29.14

**बायस**  
 कोआ 126 22  
**बायसारि**  
 उत्तू 126.14  
**बायु**  
 अपान वायु 245 15  
 कर्मसाक्षी देवता सूची 772 18  
 गैस 86 1  
 पचभूत सूची 78 9  
 वात रोग 163 22  
 वायु 85.1 ⇨  
 सधिवात 163 23  
 सचल वायु 85 4  
**बायु (अंतरिक्ष)**  
 त्रिदेव सूची 772 31  
**बायु (दे.)**  
 मरुत 781 1  
**बायुकेश**  
 गधर्व 778 3  
 गधर्व सूची 778 5  
**बायु कोण**  
 उत्तर पश्चिम 29 14  
**बायुगति**  
 द्रुतगामी [द्रुतगामिनी] 1044.7  
**बायु चक्र**  
 चक्रवात 85 10  
**बायुजात**  
 हनुमान 781 19  
**बायु तरंग**  
 वायु तरंग 1040.7 ⇨  
**बायु दाब**  
 वायु दाब 958 43 ⇨  
 वायु दाब 51.8 ⇨  
**बायु पंप**  
 वायु पंप 85 26 ⇨  
**बायुपुत्र**  
 हनुमान 781 19  
**बायु प्रवाह**  
 झोंका 85 12  
**बायु मंडल**  
 वायु मंडल 2.6 ⇨  
**बायु मंडल (दे.)**  
 आकाश 2 1  
**बायु माप**  
 वायु माप 958.42 ⇨  
**बायु मापी**  
 वायु मापी 958.44 ⇨  
**बायु मार्ग**  
 नम मार्ग 1066.1  
**बायुयान**  
 विमान 1074 10  
**बायुयान यात्रा**  
 विमान यात्रा 1087.21  
**बायुवाह**  
 धूम्र 106.19  
**बायुवाहन**  
 शिव 767.1

**बायुवाहित**  
 वायुवाहित 1041.10 ⇨  
**बायुवाहित नौका**  
 पाल नौका 1072 9  
**बायुसखा**  
 अग्नि 106 1  
**बायुसुत**  
 हनुमान 781 19  
**बायु सूची**  
 वायु सूची 85 2 ⇨  
**बायु सेना**  
 नम सेना 932 17  
**बायु सेवन**  
 वायु सेवन 1085.4 ⇨  
**बायु सैनिक**  
 नम सैनिक 934 11  
**बायुहीनता**  
 निर्वातता 1005.3  
**बारट**  
 बारट 868 2 ⇨  
**बारट (अँ)**  
 बारट 868 2  
**बारटी (अँ)**  
 गारटी 339 13  
**बार**  
 अहोरात्र 46 10  
 आक्रमण 914 3  
 निकटस्थ तट 25 15  
 पचांग अंग सूची 41 2  
 प्रहार 918.1  
 बारी 70 8  
 बारेज 22.3  
 सप्ताह बार 46 2  
**बार (अँ)**  
 युद्ध 905.4  
**बारक**  
 निवारक 920.18  
 प्रतिरक्षक 908.24  
 बलि दाता 754 22  
 रोधक 920.22  
 बार्के कर्ता 710.29  
**बार कन्या**  
 देरया 807.5  
**बारण**  
 अकल्याण निवारण 710 9  
 निवारण 920.4  
 नीम 13.12  
 प्रतिरक्षा 908 2  
 प्रहार निवारण 920 3  
 बीटो 329 10  
**बारणात्मक**  
 प्रतिरक्षात्मक 908.25  
**बारणानन**  
 गणेश 773 22  
**बारणीय**  
 निवार्य 920.19  
**बारदात**  
 अपराध घटना 861.2

घटना 75 1  
 दुर्घटना 168 2  
**बारना**  
 निवारण करना 920 14  
 प्रहार बघाना 920 13  
 बलि करना 754 18  
 बारफेर करना 710.19  
**बारने बाला**  
 बलि दाता 754.22  
 बारफेर कर्ता 710.29  
**बारपार**  
 आरपार 1097 23  
**बारफेर**  
 बारफेर 710 12 ⇨  
 बारफेर 800 48 ⇨  
**बारफेर (दे.)**  
 बलि कर्म 754 1  
 बारफेर 800.48  
**बारफेर करना**  
 बारफेर करना 710 19 ⇨  
 बारफेर कर्ता  
 बारफेर कर्ता 710.29 ⇨  
**बारमुखी**  
 देरया 807 5  
**बारयितब्य**  
 निवार्य 920 19  
**बारयिता**  
 निवारक 920.18  
 प्रतिरक्षक 908 24  
**बार योषिता**  
 देरया 807 5  
**बार बनिता**  
 देरया 807 5  
**बार बाणि**  
 मुख्य गायक 460.31  
**बारवारण**  
 कवच 921.2  
**बार सेबा**  
 देरया वृत्ति 807.2  
**बारहेड**  
 बारहेड 1075.4 ⇨  
**बारहेड (अँ)**  
 बारहेड 1075.4  
**बारंगना**  
 देरया 807.5  
**बार**  
 अव्ययसाध्य 644.21  
 निकटस्थ तट 25.15  
 बघत 645 1  
 लाभ 646.2  
**बारा [बारी]**  
 बलिदात 754.21  
**बाराणसी: प्रभात काल**  
 बाराणसी: प्रभात काल 47.5 ⇨  
**बाराणसी रक्षक**  
 शिव गण 767.31  
**बारा न्यारा**  
 समाधान 334.6

## वारापार

### वारापार

समुद्र 24 1  
**वाराह**  
 बेंत 923.8  
 वराह अवतार 769 34  
**वाराही**  
 देवी शक्ति सूची 774 50  
 पृथ्वी 9 1  
 मादा सूअर 127 82  
 वाराही 774.83 ⇌  
 विष्णु शक्ति 768 2  
 श्यामा 126 73  
 सप्त मातृका सूची 774.70  
**वाराही कंद**  
 ज़मीकंद 189 21  
**वारि**  
 जल 88 1  
 बलि वस्तु 754 2  
**वारिज**  
 कमल 14 4  
 जलज 88.24  
 शुद्ध स्वर्ण 95 5  
**वारित**  
 अनुमति अदत्त 338 35  
 निवारित 920 17  
 निषिद्ध 880 12  
 बलिदत्त 754 21  
 रोधित 920 21  
**वारित करना**  
 रोधित करना 920.15  
**वारिद**  
 जलद 88 25  
 मेघ 55.1  
**वारिद्र**  
 क्षातक 126 39  
**वारिधारा**  
 जलधारा 21 15  
**वारिधि**  
 वाचस्पति उपाधि 322 30  
 समुद्र 24.1  
**वारिनाथ**  
 मेघ 55 1  
 वरुण 773 43  
**वारि यंत्र**  
 फुहारा 1032 10  
 स्नान फुहारा 221 18  
**वारि रथ**  
 जलयान 1072 1  
**वारिवाह**  
 पनहार 19 25  
 मेघ 55 1  
**वारि विहार**  
 जलक्रीड़ा 483 19  
**वारिस**  
 उत्तराधिकारी 623 2  
**वारींद्र**  
 समुद्र 24 1

### वारी जाना

वारफेर करना 710.19  
**वारीय**  
 जलैय 88 22  
**वारीश**  
 समुद्र 24 1  
**वारी संख्यक**  
 समसंख्यक 949.29  
**वारी संख्या**  
 समसंख्या 949 8  
**वारुंड**  
 नागराज 778 17  
**वारुंडी**  
 द्वार पेड़ी 613.4  
**वारुकुषु (जैव अयेस्ता)**  
 अरब सागर 24.14  
**वारुण**  
 जल 88.1  
 जलजीव 124 1  
 जलैय 88 22  
 वरुणीय 773.55  
 हरताल 92 13  
**वारुण कर्म**  
 कूप उत्खनन 19 19  
**वारुणि**  
 उपनिषद 740.12  
 वसिष्ठ 789 18  
**वारुणी**  
 पश्चिम 29 12  
 मदिरा 209 12  
 मघ 209 1  
 मादा हाथी 127 39  
 वारुणी 774 84 ⇌  
**वारुणी वल्गभ**  
 वरुण 773 43  
**वारुणीश**  
 विष्णु 768 1  
**वारुणेय**  
 वरुणीय 773.55  
**वारुण्य**  
 वरुणीय 773.55  
**वारै न्यारे होना**  
 अच्छा लाम कमाना 646.12  
**वाई**  
 पता निर्देश 444 14  
**वाई (जै)**  
 अभिसंतान 720.14  
 नगर खंड 619.5  
**वाईन (जै)**  
 अभिप्रेता 720.12  
**वाई रूम (जै)**  
 कप्तान कक्ष 1073.38  
**वार्षिक**  
 अक्षरीय 410 22  
 वार्षिक 452.56 ⇌  
**वार्षिक गण**  
 वार्षिक गण 452 42 ⇌

### वार्षिक गण सूची

वार्षिक गण सूची 452.43 ⇌  
**वार्षिक छंद**  
 वार्षिक छंद 452 4 ⇌  
**वार्ता**  
 अपुष्ट समाचार 440.5  
 कथा कृति 450.3  
 गुप्त समाचार 440.4  
 जनश्रुति 424.13  
 परिघर्षा 436.3  
 भेंटवार्ता 436.5  
 वार्तालाप 435.1  
 वृत्तांत 449 14  
 समाचार 440.1  
**वार्ताक**  
 बटेर 126.55  
**वार्ताकार**  
 परिघर्षा कर्ता 436.11  
**वार्ताकी**  
 बैंगन 189 29  
**वार्ताक्षेप**  
 कृताकलामी 435.2  
**वार्ता रस**  
 बतरस 435 8  
**वार्ता रसिक**  
 बतरसिया 435.29  
**वार्तालाप**  
 भेंटवार्ता 436 5  
 वार्तालाप 435.1 ⇌  
**वार्तालाप करना**  
 वार्तालाप करना 435.16 ⇌  
**वार्तालाप कर्ता**  
 वार्तालाप कर्ता 435.24 ⇌  
**वार्तालाप कुशल**  
 वार्तालाप कुशल 435.25 ⇌  
**वार्तालापी**  
 वार्तालाप कर्ता 435 24  
**वार्तालाप**  
 परक्रामण 658.8  
**वार्ताहर**  
 संदेश वाहक 443.3  
**वार्षिक**  
 गुप्तघर 886 12  
 बरात भोज 183.9  
 व्याख्या पुस्तक 446.31  
 व्यापारी वैश्य 731.26  
 संदेश वाहक 443.3  
**वार्दर**  
 दक्षिणावर्त शंख 461.79  
**वार्दल**  
 वर्षा दुर्दिन 54.4  
**वार्धक्य**  
 वृद्धि 979.4  
**वार्निश**  
 वार्निश 290.15 ⇌  
**वार्निश (जै)**  
 रंगव्य गोंद 1012 9

### वार्बट

जलयान 1072.1  
 नौका 1072.2  
**वार्ब**  
 जलीय 88.22  
 निवार्य 920.19  
**वार्ब**  
 वर्षा कालीन 54.19  
 वर्षीय 42.27  
**वार्बभानवी**  
 राधा 771.83  
**वार्बल**  
 शुदीय 731.38  
**वार्बलि**  
 शुदीय 731.38  
**वार्बिक**  
 ऋतु कालातीत 51.18  
 वर्षीय 42 27  
 वार्षिक 71.22 ⇌  
**वार्षिक उत्सव**  
 वार्षिक समारोह 694 16  
**वार्षिक कार्य विवरण**  
 वार्षिक कार्य विवरण 449 10 ⇌  
**वार्षिक दिन**  
 जयंती 58.1  
**वार्षिक देय**  
 वार्षिक देय 634.10 ⇌  
**वार्षिक पारिश्रमिक**  
 वार्षिक पारिश्रमिक 643.9 ⇌  
**वार्षिक भोज**  
 वार्षिक भोज 183.8 ⇌  
**वार्षिक रिपोर्ट**  
 वार्षिक कार्य विवरण 449.10  
**वार्षिक समारोह**  
 वार्षिक समारोह 694.16 ⇌  
**वार्षिकी**  
 झयर बुक 993.14  
 रेनुइटी 643.29  
 पुण्य दिवस 58 3  
 वार्षिक समारोह 694.16  
**वार्षिकोत्सव**  
 वार्षिक समारोह 694.16  
**वार्धि**  
 कृष्ण 771.1  
**वार्धिय**  
 कृष्ण 771.1  
**वार्लटियर (जै)**  
 सहयोग समर्पक 700.21  
**वार्लटियर करना**  
 सहयोग समर्पक करना 700.15  
**वालरस**  
 वालरस 124.11 ⇌  
**वालरस (जै)**  
 वालरस 124.11  
**वाला**  
 उच्च 982.7  
 -वाला  
 विक्रेता 661.2

वाला [वाली]  
रथेता 527 14  
-वाला [-वाली]  
सहित. प्रत्यय सूची 1006.5  
वालिका  
मुद्रा अंगुठी 414.18  
वालिनद  
पिता 717.4  
वालिनदा  
माता 717.7  
वालिनदेन  
पिता माता 717.1  
वाली  
अभिपिता 720 12  
सहायता दाता 700 25  
स्वामी 621.2  
लुक  
रेत 100 1  
लुका  
रेत 100 1  
ल्ट (अँ)  
स्ट्रीग लूम 630.8  
ल्ल्मीक  
वाल्ल्मीक 789 19  
ल्ल्मीक  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
लव कुश. गुरु 770.55  
वाल्ल्मीक 789.19 ⇨  
ल्ल्मीक रामायण  
वाल्ल्मीक रामायण 770.13 ⇨  
ल्ल्मीक रामायणः काण्ड सूची  
वाल्ल्मीक रामायण कण्ड सूची 770.14 ⇨  
वाल्ल्मीक  
आर्तनाद 386.3  
ललश बेसिन  
वाश बेसिन 221.20 ⇨  
ललश बेसिन (अँ)  
धिलमची 679 27  
वाश बेसिन 221.20  
ललशर (अँ)  
फुल्ली 1016.27  
ललशिंग मशीन (अँ)  
प्रक्षालन यंत्र 220.9  
ललशिंग सौप (अँ)  
कपड़ाः साबुन 220.29  
ललशिता  
मादा हाथी 127.39  
स्त्री 238 3  
ललश  
अश्रु 387.1  
दुःखः शिष्य सूची 793.12  
वाष्य 91.1 ⇨  
ललश अवस्था  
गैसीय अवस्था 79.3  
ललश इंजन  
कोयला इंजन 1078 11  
वाष्य इंजन 1078.3 ⇨

वाष्यकंठ  
रुद्रकंठ 429.28  
वाष्य जल  
आसवित जल 88 6  
वाष्य ट्रेन  
कोयला गाड़ी 1078 12  
वाष्य तेल  
इत्र 274 8  
वाष्य नौका  
वाष्य नौका 1072.11 ⇨  
वाष्य पक्वन  
वाष्य पक्वन 195.36 ⇨  
वाष्य पोत  
वाष्य नौका 1072 11  
वाष्य पोत 1072.12 ⇨  
वाष्य बनना  
वाष्य बनना 91 8 ⇨  
वाष्य यान  
वाष्य नौका 1072 11  
वाष्य यान 1070.6 ⇨  
वाष्य स्नान कक्ष  
वाष्य स्नान कक्ष 221 19 ⇨  
वाष्यित  
वाष्यित 91.10 ⇨  
वाष्यित्र  
ऐस्प्रीसो मशीन 682 23  
बायलर 109.21  
वाष्यीभूत तुषार समूह  
कोहरा 90 10  
वासंत  
वसंत कालीन 52 3  
वासंतिक  
नर्तक 462 13  
भौंड 473 16  
वसंत कालीन 52 3  
विदूषक 467 19  
वासंतिक क्रांतिपात  
वसंत विषुव 5 24  
वासंती  
जूही 14.18  
बसंती 289.55  
मालती 14.21  
वसंत कालीन 52 3  
वसंतोत्सव 57 24  
वास  
आहार सुवास 281 1  
गंध 273.3  
गुह 601 1  
निवासिता 616 1  
परिधान 583.1  
भवन 602.7  
सुगंध 273.4  
वासस्यंठ  
वस्त्र. कटपीस 579 23  
वासगुह  
शयन कक्ष 614.21  
वासन  
बरतन 680.1

संदूक 676 15  
वासना  
आसक्ति 365.1  
इच्छा 359 1  
ऐद्रिक सुख 390 5  
काम वासना 237.5  
भावना 358 13  
मनसिजा 352 5  
लालसा 359.5  
विवाह अनिच्छा 806 1  
वासना भोग  
विलास 363 6  
वासनाहीन  
कामहीन 237 17  
वासनाहीनतः  
इच्छाहीनत 360 21  
वासनाहीनता  
अनासक्ति 366 1  
वास यष्टि  
पक्षी छतरी 603.13  
वासयुक्त  
गद्ययुक्त 273 13  
वासर  
अहोरात्र 46 10  
सप्ताह वार 46.2  
वासव  
इंद्र 773 5  
ऐंद्र 773 53  
वसु विषयक 777 16  
वासवी  
अर्जुन 771 36  
ऐंद्र 773 53  
शघ. वती 771 95  
वासवीय  
ऐंद्र 773 53  
वसु विषयक 777 16  
वासवेय  
वेद व्यास 789 21  
वासहीन  
गंधहीन 273 14  
वासा  
लौजिंग हाउस 1090.32  
वासाधिकारी  
आवास अधिकारी 622 7  
वासित  
आवासित 618.23  
सुवासित (आहार) 281 41  
वासिता  
चिवासिता 616 1  
वासिस्र  
प्रशंसक 841.31  
वासी  
निवासी 616 13  
बसुला 559.25  
बसुली 559.26  
वासीयता  
निवासिता 616.1

वासी होना  
निवासी होना 616 12  
वासुदी  
रबड़ी 203 31  
वासुधरेयी  
सीता 770.86  
वासु  
आत्मा 763 1  
ईश्वर 764 1  
विष्णु 768 1  
वासुकि  
आठ नागराज सूची 778 18  
वासुकि नाग 778.21  
वासुकि नाग  
वासुकि नाग 778.21 ⇨  
वासुकि नागः बहन  
मनसा 774 62  
वासुदेव  
कृष्ण 771 1  
कृष्ण विषयक 771 99  
घोड़ा 127 35  
घतुर्व्यूह विष्णु अंश सूची 768 15  
पीपल 13 14  
बलराम 771 74  
विष्णु 768 1  
वासुदेवीय  
कृष्ण विषयक 771 99  
वासुपूज्य  
तीर्थकर सूची 792 2  
वास्कट  
वास्कट 585 59 ⇨  
वास्ताव  
तत्त्व 78 6  
मूल तथ्य 820 16  
वस्तु विषयक 666 10  
वास्तविक 820 23  
सत्य 820 1  
वास्ताव में  
सत्यत 820 25  
वास्ताविक  
घटनामूलक 75.10  
तत्त्वीय 78 24  
तथ्यात्मक 820 24  
वस्तु विषयक 666 10  
वास्ताविक 820.23 ⇨  
सत्यतापूर्ण 820.20  
वास्ताविक ऊर्जा  
गतिक ऊर्जा 101.2  
वास्ताविकता  
तथ्य 820.14  
वास्ताविकता 820.13 ⇨  
सत्य 820.1  
सत्यता 820.2  
स्वाभाविकता. 836.5  
वास्ता  
प्रयोजन 508 1  
प्रेम 368 1  
व्यवहार 703 2

## वास्ता न होना

- सदर्भ 437 3  
सपर्क 703 5  
संघ 715 1  
स्वजन भावना 725 2  
वास्ता न होना  
सम्बन्धित न होना 715 8  
वास्तु  
गृह 601 1  
भवन 602 7  
स्थापत्य 599 1  
वास्तु कर्म  
भवन निर्माण 598 1  
वास्तुकार  
स्थपति 599 2  
वास्तु देव  
गृह देवता 772.25  
वास्तुपति  
गृह देवता 772 25  
वास्तु पुरुष  
गृह देवता 772 25  
वास्तु याग  
गृह पूजन 598.5  
वास्तु विद्या  
घोसठ कला सूची 397 4  
वास्तु वेद  
वास्तु वेद 740.39 ⇨  
वास्तु शास्त्र  
वास्तु वेद 740.39  
वास्तु शिल्प  
स्थापत्य 599 1  
वास्तु शिल्पी  
स्थपति 599 2  
वास्तो  
कारणतः 507 7  
संबन्धतः 715 14  
वास्त्र  
वस्त्रीय 579 24  
वाह  
आनन्द ध्वनि सूची 382.25  
वाहक  
वाहक 1061.20 ⇨  
वाहक द्वारा प्रेषित  
वाहक द्वारा प्रेषित 1054.23 ⇨  
वाहक पशु  
भार पशु 127.5  
वाह गुरु  
सिख गुरु 784 1  
वाहन  
यान 1070 1  
धन 1071.81  
सवारी पशु 127.4  
हत्थी 127.38  
वाहन वाहन  
वाहन वाहन 595.42 ⇨  
वाहन वाहन  
यान वाहन 1078.23  
वाहन वाहन  
यान वाहन 1079.2
- वाहन पार्किंग  
पार्किंग 1069 33  
वाहन पूजा  
दशहरा 57 9  
वाहन प्राप्ति स्थल  
परिवहन स्थल 1069 1  
वाहन भाड़ा  
वाहन भाड़ा 622 11 ⇨  
वाहन मार्ग  
वाहन मार्ग 1063.12 ⇨  
वाहन शाला  
यान शाला 1069 25  
वाहन श्रेष्ठ  
घोड़ा 127 35  
वाहन सीट (ऑ)  
वाहन आसन 595.42  
वाहन सेना  
रथ सेना 932 14  
वाहन स्थल  
परिवहन स्थल 1069 1  
वाहनिक  
गाड़ीवान 1079 9  
वाहनीय  
वाहनीय 1061.19 ⇨  
वाह वाह  
शाबाशी उद्गार सूची 841 40  
वाहवाही  
साधुवाद 841.20  
वाहवाही करना  
ताली बजाना 296.23  
साधुवाद करना 841.27  
वाहिक  
भार वाहक 1061.22  
वाहिका  
वाहिका 131.10 ⇨  
वाहित  
प्रवाहित 1041.7  
वाहित 1061.18 ⇨  
वाहित (भार)  
वाहित (भार) 1061.21 ⇨  
वाहित भार  
माल भार 1061.7  
वाहिता  
वाहक 1061.20  
संचालक 855.16  
वाहित  
भार यान 1071.2  
वाहितः भार  
वाहितः भार 959.59 ⇨  
वाहित  
अद्वैत ईश्वर 784.6  
अस्लाह 784.12  
एकमात्र 946.20  
वाहिनी  
नदी 20.1  
नली 19.29  
बटालियन 932.28  
वाहिका 131 10
- सेना 932 1  
वाहिनी निवेश  
सेना छावनी 933 7  
वाहिनीश  
सेनापति 935 1  
वाहियात  
अनुपयोगी 525 8  
असंगत 439 5  
असभ्य 734 14  
वाही  
उत्पादक 546 13  
पहुँचाने वाला 1053.17  
प्रवाहक 1041 6  
प्रवाहशील 1041 8  
भार वाहक 1061 22  
रथ 1071 46  
वाहक 1061 20  
वाही तवाही  
प्रलाप 428 6  
वाह्य  
वाहनीय 1061 19  
वाह्य नदी  
नदी मार्ग 1066 6  
वाह्यीक  
केसर 274.16  
विंग  
विंग 932.32 ⇨  
विंग (ऑ)  
नगर खंड 619 5  
मंच पार्श्व 471.17  
विंग 932 32  
विंग कमांडर  
विंग कमांडर 935 9 ⇨  
विंग कमांडर (ऑ)  
विंग कमांडर 935.9  
विंग्स (ऑ)  
पदक 857 7  
विमान पख 1074 22  
विच (ऑ)  
ग्लाइडर विच 1074.8  
विंटर (ऑ)  
शीत काल 53.1  
विंड ब्रेकर (ऑ)  
प्रतिवातित्र 85.31  
विंडशील्ड (ऑ)  
विंडस्क्रीन 85.32  
विंडस्क्रीन  
विंडस्क्रीन 85.32 ⇨  
विंडस्क्रीन (ऑ)  
विंडस्क्रीन 85.32  
विंडो (ऑ)  
खिड़की 608.17  
विंदु  
दृश्य विन्द 948.14  
विध्य  
विध्याचल 17.6  
विध्य गिरि  
विध्याचल 17.6
- विध्य पर्वत  
भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17.1  
विध्यवासिनी  
दुर्गा मूर्ति सूची 746.4  
विध्यवासिनी 774.85 ⇨  
विध्यवासिनी (वर्तमान)  
योग माया 771.82  
विध्या  
छोटी इलायची 281 9  
विध्याचल  
विध्याचल 17 6 ⇨  
विध्याद्रि  
विध्याचल 17.6  
विध्यावली  
दैन्य स्त्री सूची 783 21  
विध्याचल 17 6  
विष  
चित्र 404 1  
विंशति  
बीस 948 55  
विंशति लव प्रणाली  
विंशति लव प्रणाली 950.9 ⇨  
विंशच्छातु  
रावण 784.12  
दि-  
अच्छा उपसर्ग सूची 313 19  
रहित उपसर्ग सूची 1007 5  
दि. (बीज रूप)  
विक्रमी संवत् 42 2  
विकंपन  
तरंगण 1040 15  
राक्षस सूची 784 4  
स्पन्दन 1039.2  
विकंपी  
कपित 1039.20  
विकच  
परिवर्तनशील 532.17  
लट 223 15  
विकट  
अगम्य 519.25  
अदम्य 519.28  
असमतल 987.6  
कठिन 519.18  
क्रिकेट विकट 482 14  
दैन्यकाय 154.24  
प्रबल 487.24  
बीहड़ 987.9  
बीहड़ भूमि 987.5  
भयानक 395.25  
विकराल 154.23  
संकटात्मक 909.21  
विकट कपाट  
विकट कपाट 809.7 ⇨  
विकटकाय  
दैन्यकाय 154.24  
विकट कीपन (ऑ)  
विकट रत्नक 475.13

**वेकट गेट (अँ)**  
 वेकट कपाट 609.7  
**वेकटता**  
 अगम्यता 519.9  
 अदम्यता 519.12  
 असमतलता 987.1  
 कठिनता 519.1  
 विकरालता 154.8  
**वेकट भूमि**  
 असमतल भूमि 987.2  
**वेकट रक्षक**  
 वेकट रक्षक 475.13 ⇨  
**वेकटा**  
 माया देवी 793.13  
**वेकटाकृति**  
 विकराल 154.23  
**वेकत्वा**  
 आत्मप्रशंसा 842.1  
**वेकराल**  
 अदम्य 519.28  
 दैत्यकाय 154.24  
 विकराल 154.23 ⇨  
**वेकराल (दे.)**  
 भयानक 395.25  
**वेकरालता**  
 विकरालता 154.8 ⇨  
**वेकरालता (दे.)**  
 भयानकता 395.7  
**वेकराला**  
 छिन्नमस्ता 776.6  
 दुर्गा 776.7  
**वेकर्ण**  
 विकर्णयुक्त 1026.11  
 विकर्ण रेखा 968.25  
**वेकर्णता**  
 विकर्णता 1026.5 ⇨  
**वेकर्णयुक्त**  
 विकर्णयुक्त 1026.11 ⇨  
**वेकर्ण रेखा**  
 विकर्ण रेखा 968.25 ⇨  
**वेकर्षक**  
 विकर्षक 1050.31 ⇨  
**वेकर्षण**  
 उद्देघन 1017.2  
 घृणा 370.2  
 प्रतिकर्षण 1051.11  
 विकर्षण 1050.11 ⇨  
**वेकर्षित**  
 विकर्षित 1050.30 ⇨  
**वेकर्षित करना**  
 विकर्षित करना 1050.26 ⇨  
**वेकर्षित होना**  
 विकर्षित होना 1050.25 ⇨  
**वेकर्षी**  
 विकर्षक 1050.31  
**वेकल**  
 अस्थिरचित्त 355.7  
 आतुर 496.11

आतुर प्रतीक्षक 1057.11  
 उद्दिग्ध 377.13  
 क्षमताहीन 488.15  
 धैर्यहीन 395.27  
 प्रभावहीन 511.10  
 विकलांग 153.15  
 विवश 901.11  
**विकलता**  
 अस्थिरचित्तता 355.3  
 आतुरता 496.3  
 उद्दिग्धता 377.4  
 विकलांगता 153.2  
 शारीरिक पीड़ा 392.4  
**विकलता प्रदर्शन**  
 कुलबुलाहट 392.2  
**विकलांग**  
 विकलांग 153.15 ⇨  
**विकलांग करना**  
 विकलांग करना 153.11 ⇨  
**विकलांगता**  
 विकलांगता 153.2 ⇨  
**विकलांगन**  
 विकलांगीकरण 153.3  
**विकलांगीकरण**  
 विकलांगीकरण 153.3 ⇨  
**विकलाना**  
 कुलबुलाना 392.17  
**विकलित**  
 उद्दिग्ध 377.13  
**विकल्प**  
 विकल्प 516.1 ⇨  
 विकल्प विधि 516.2  
**विकल्प (दे.)**  
 अथवा 945.13  
**विकल्पप्रस्तता**  
 दुबिधाप्रस्तता 501.2  
**विकल्प जाल**  
 दुबिधा 501.1  
**विकल्पतः**  
 विकल्पतः 516.6 ⇨  
**वैकल्पिक विधितः** 516.7  
**विकल्पयुक्त**  
 वैकल्पिक 516.4  
**विकल्प विधि**  
 विकल्प विधि 516.2 ⇨  
**विकल्पहीन**  
 विकल्पहीन 516.5 ⇨  
**विकल्पहीनता**  
 विकल्पहीनताः 516.8 ⇨  
 विवशताः 901.13  
**विकल्पहीनता**  
 विकल्पहीनता 516.3 ⇨  
**विकल्पित**  
 वैकल्पिक 516.4  
**विकसन**  
 प्रस्फुटन 119.1  
**विकसना**  
 उत्पन्न होना 546.8

प्रस्फुटित होना 119.6  
 विकसित होना 534.9  
**विकसित**  
 उन्नत 534.10  
 पूर्ण विकसित 534.15  
 प्रस्फुटित 119.10  
 युवा 231.12  
 विकसित 534.14 ⇨  
 सभ्य 733.13  
**विकसित करना**  
 बस्ती बसाना 599.36  
**विकसितता**  
 प्रस्फुटितता 119.2  
 वयस्कता 229.13  
 सभ्यीकरण 733.1  
**विकसित मादा कोशा**  
 डिंबाणु 130.7  
**विकसित शब्द**  
 विकसित शब्द 423.7 ⇨  
**विकसित होना**  
 विकसित होना 534.9 ⇨  
**विकस्वर**  
 प्रस्फुटित 119.10  
**विकाम**  
 अनासक्त 366.5  
 कर्मफल त्यागी 504.21  
 निष्काम कर्मी 504.19  
**विकार**  
 अज्ञान 306.1  
 अनुभाव 358.6  
 अपवृद्धि 979.5  
 अवनति 535.1  
 आसक्ति 365.1  
 का' बसाना 237.5  
 दुःख 314.4  
 परिवर्तन 532.1  
 पाप 812.1  
 भाव 358.1  
 भ्रम 342.1  
 मल 214.1  
 रो' 31.1  
 विकार 536.1 ⇨  
 विकार 744.36 ⇨  
 स्वर विकार 299.9  
**विकार (अँ)**  
 विकार 744.36  
**विकारक**  
 विकारक 536.9 ⇨  
**विकारकारी**  
 विकारक 536.9  
**विकारप्रस्त**  
 विकृत 536.8  
**विकारप्रस्तता**  
 दुरधरित्रता 811.1  
**विकारज**  
 विकारजन्य 536.7  
**विकारजन्य**  
 विकारजन्य 536.7 ⇨

**विकार परीक्षक**  
 विकार परीक्षक 171.15 ⇨  
**विकार परीक्षा**  
 विकार परीक्षा 171.6 ⇨  
**विकारशील**  
 अवनतिशील 535.6  
 परिवर्तनशील 532.17  
**विकारशीलता**  
 परिवर्तनशीलता 532.2  
**विकारहीन**  
 अनुभूतिहीन 264.19  
 अपरिवर्तनशील 533.10  
 अपरिवर्तित 533.9  
 विशुद्ध 219.7  
**विकारहीनता**  
 अविकार 533.6  
**विकारित**  
 परिवर्तित 532.16  
**विकारी**  
 अविशुद्ध 219.8  
 खोटा [खोटी] 98.13  
 दुर्गुणी 314.8  
 परिवर्तनकारी 532.18  
 परिवर्तनशील 532.17  
 विकारजन्य 536.7  
**विकाल**  
 सायंकाल 47.13  
**विकास**  
 अविकास 533.4  
 उन्नति 534.1  
 विकास 534.4 ⇨  
 वृद्धि 979.4  
**विकास (दे.)**  
 प्रगति 1095.1  
**विकास अवस्था**  
 विकास स्थिति 534.5  
**विकासक**  
 उन्नतिकारी 534.12  
**विकास करना**  
 बस्ती बसाना 599.36  
**विकास काल**  
 वसंत काल 52.1  
**विकास क्रम**  
 विकास क्रम 991.12 ⇨  
**विकास क्रम से**  
 विकास क्रम से 991.33 ⇨  
**विकास स्थिति**  
 विकास स्थिति 534.5 ⇨  
**विकासहीन**  
 अविकसित 533.11  
**विकासहीनता**  
 अविकसित 533.4  
 असम्यता 734.1  
**विकास होना**  
 विकसित होना 534.9  
**विकिरण**  
 छितराव 668.8  
 बिखराव 668.1

## विकिरणित

विकिरण 288.5 ⇨  
विकेंद्रण 971.8

### विकिरणित

विकीर्ण 288.11  
विकीर्ण  
विकीर्ण 288.11 ⇨  
विकेंद्रित 971.22

विकीर्ण करना  
विकीर्ण करना 288.9 ⇨

विकीर्णन  
छितराय 668.8

विकीलन  
उत्कीलन 1017.4

विकुंचन  
संकुचन 980.9

विकुंचित  
वक्र 974.16  
सकुंचित 980.26

विकृत  
कुंडल 155.5  
खोटा [खोटी] 98.13

तुड़ा मुड़ा [तुड़ी मुड़ी] 975.31  
दुर्गुणी 314.8  
विकृत 536.8 ⇨

विकृत (यंत्र)  
विकृत (यंत्र) 536.10 ⇨

विकृत करना  
विकृत करना 536.4 ⇨

विकृत शब्द  
विकृत शब्द 423.6 ⇨

विकृतांग  
विरूपितांग 153.24

विकृति  
अपवृद्धि 979.5  
घातु खोट 98.5  
विकार 536.1

विकृति सुधार  
मरम्मत 538.1

विकृतिहीनता  
अधिकार 533.6

विकृष्ट  
कर्षित 1051.36

विकेंद्र गमन  
केंद्रापसरण 971.13

विकेंद्रगामी  
केंद्रापसारी 971.27

विकेंद्रण  
ध्यान भग 331.4

विकिरण 288.5  
विकेंद्रण 971.8 ⇨  
सत्ता विकेंद्रीयकरण 899.7

विकेंद्रण (दे.)  
बिखराय 668.1

विकेंद्रता  
केंद्रहीनता 971.9

विकेंद्राभिमुख  
केंद्रविमुख 1023.12

विकेंद्राभिमुखी  
केंद्रविमुख 1023.12

विकेंद्राभिसरण  
केंद्रापसरण 971.13

विकेंद्राभिसारी  
केंद्रापसारी 971.27

विकेंद्रित  
विकेंद्रित 971.22 ⇨

विकेंद्रित करना  
विकेंद्रित करना 971.15 ⇨

विकेंद्रितता  
ध्यान भग 331.4

विकेंद्रीकरण  
सत्ता विकेंद्रीयकरण 899.7

विकेंद्रीय  
केंद्रहीन 971.23

विकेंद्रीयकरण  
विकेंद्रण 971.8

विकेश [विकेशी]  
गंजा 137.30

विकेशी  
पूतना 784.25

विकोक  
असुर सूची 783.8

विकोश  
अपिघानित 675.19

विक्टोरिया क्रॉस (ऑ)  
ब्रिटिश सेना शिस्ता चक्र सूची 857.13

विक्रम  
परिश्रम 493.1

प्रताप 849.5  
प्रतिरोध 915.1

विष्णु 768.1  
वीरता 396.1

विक्रमाब्द  
विक्रमी संवत् 42.2

विक्रमी  
परिश्रमी 493.9

विक्रमी संवत् 42.2  
वीर 396.6

विक्रमीय  
वीरता विषयक 396.5

वीरोचित 396.7

विक्रमी संवत्  
विक्रमी संवत् 42.2 ⇨

विक्रमी संवत् में  
विक्रमी संवत् में 42.29 ⇨

विक्रमे  
विक्रमी संवत् में 42.29

विक्रय  
विक्रय 661.1 ⇨

विक्रय करना  
बेचना 661.20

विक्रय कर्मी  
सेल्समैन 661.16

विक्रय पत्र  
केरा मीमो 632.26

बिक्री दरस्तावेज 412.20

विक्रय प्रदर्शनी  
विक्रय प्रदर्शनी 663.9 ⇨

विक्रय मेला  
मेला बाज़ार 663.10

विक्रय लेखा  
बिक्री बही 632.17

विक्रय वस्तु  
पण्य सामान 666.5

विक्रयागार  
दुकान 662.1

वितरण केंद्र 656.9

विक्रयार्थ  
विक्रयार्थ 661.23 ⇨

विक्रयी  
विक्रेता 661.2

विक्रांत मणि  
वैक्रांत 96.27

विक्रांता  
जयी 912.15

जवा कुसुम 14.17  
योद्धा 934.15

वीर 396.6  
सैनिक 934.1

विक्रीत  
विक्रीत 661.21 ⇨

विक्रीत होना  
बिकना 661.19

विक्रेतव्य  
विक्रेय 661.22

विक्रेता  
विक्रेता 661.2 ⇨  
सेल्समैन 661.16

विक्रेय  
विक्रेय 661.22 ⇨

विक्रय  
ऊबा [ऊबी] 401.14

कंपित 1039.20

विक्रसांत  
अलसाया [अलसाई] 490.13

धका [धकी] 492.15  
स्नान 120.11

विक्रसांतिकर  
धकाऊ 492.17

विक्षत  
घायल 168.7

विक्षिप  
सात मरुत सूची 781.4

विक्षिप्त  
उन्मत्त 354.22

पागल 354.24

विक्षिप्तता  
पागलपन 354.14

सनक 353.10

विशुद्ध  
उद्दिग्न 377.13  
ऊँची लहरो वाला 1040.33

हुद्ध 373.28  
भयभीत 395.19

विशुद्धता  
उद्दिग्नता 377.4

विशेष  
प्रक्षेप 1052.1

वृद्धि 979.4

विशेषण  
छितराय 668.8

बिखराय 668.1

विशोध  
क्रोध 373.1

विखंडन  
चूर्णन 540.1

भंजन 539.1

विखंडित  
अभिमान मर्दित 911.12

ढहा [ढही] 539.17  
निरस्त 338.39

भंजित 539.12  
भयभीत 395.19

मर्दित 911.10

विखुर  
पिशाच 786.8

विख्यात  
ख्यात 847.3

विख्यात होना  
ख्याति होना 847.2

विख्याति  
ख्याति 847.1

विख्यापन  
प्रचार 442.1

विग  
विग 137.18 ⇨

विग (ऑ)  
विग 137.18

विगणन  
विचारण 330.5

विगणित  
गिना [गिनी] 950.12

विगत  
अतीत 63.8

अनुपस्थित 1022.7  
अस्तगत 5.30

गत 1091.8  
पट समक्ष पूर्वर्ण सूची 468.19

भूत कालीन 36.18  
भूत 249.23

रहित 1007.3  
व्यतीत 74.3

विगत कल  
विगत कल 46.13 ⇨

विगतकल्मष  
पापनष्ट 813.10

विगत काल  
पूर्व काल 60.7

भूत काल 36.10  
विगतता  
अतीतता 63.3



विगत दृश्यः स्मृति  
फ्लेश बैक 463.31  
विगतस्य  
विरक्त 366.6  
विगतश्रीक  
शोभाहीन 226.12  
विगत से सीखना  
सिंहावलोकन करना 330 15  
विगतस्पृह  
विरक्त 366.6  
विगत स्मृति लेख  
सस्मरण 450.19  
विगतातीर्था  
रज निवृत्ता 130.14  
विगति  
व्यतीति 74.1  
विगतोद्ध  
गौतम बुद्ध 793 1  
विगत्वरण  
विरामण 1048 2  
विगम  
विदा 105E.1  
विगर्जित  
घोर ध्वनित 294 29  
विगर्हित  
घृणित 370 6  
विगलन  
ग्रीन 167.5  
दया द्रवण 834 5  
द्रवण 80.2  
धातु संगलन 565 11  
पूयन 169.9  
वनस्पति क्षय 549 4  
त्राव 1032 1  
विगलित  
अश्रुपूर्ण 387.7  
दयार्द्र 834 14  
पूयित 169 15  
विगाधा  
डुबकी लगाने वाला 1031.32  
विगाही  
डुबकी लगाने वाला 1031.32  
विगुण  
त्रिगुणातीत 762.13  
निर्गुण ईश्वर 764 9  
बुरा [दुरी] 314.10  
विगुणता  
निकृष्टता 314.1  
विगूह  
रहस्यपूर्ण 823.13  
विगोत्र  
विगोत्र 729.14 ⇨  
विगोत्रता  
विगोत्रता 729.3 ⇨  
विग्रह  
आकार रूप 967.5  
कलह 708.1  
देव मूर्ति 748.1

परस्पर अनिवाह 703.4  
मित्रता विस्थापना 705.16  
भूति 406 1  
युद्ध 905 4  
विभाजन 899 3  
विलग्नन 1011 1  
शरीर 139 1  
सघर्ष 905 1  
सधि भंग 907 13  
स्वरूप 967 6  
विग्रही  
कलहप्रिय 708-13  
योद्धा 934 15  
विघटन  
चूर्णन 540 1  
नाश 531.1  
विघटन 544.1 ⇨  
विरलेषण 427.19  
विघटित  
विघटित 544 17 ⇨  
विघटित होना  
विघटित होना 544 12 ⇨  
विघट्टन  
विघटन 544 1  
विलग्नन 1011 1  
विघट्टित  
मनोव्यथित 391 26  
विघटित 544.17  
विघन  
मेघहीन 55 15  
हथौड़ा 559 39  
विघात  
आहति 168 1  
हत्या 251 5  
विघाती  
मारने वाला 251 26  
विघूर्णन  
धुरी चक्रण 1033 1  
विघूर्णा  
चक्रवात 85 10  
विघूर्णित  
चक्रित 1033 17  
विघ्न  
विघ्न 1047 12 ⇨  
विघ्नकर  
विघ्न कर्ता 1047 29  
विघ्न कर्ता  
विघ्न कर्ता 1047.29 ⇨  
विघ्नकारी  
विघ्न कर्ता 1047 29  
विघ्न डालना  
अवरुद्ध करना 1047.19  
विघ्न निवारक  
विघ्न हर्ता 1049.15  
विघ्न निवारण  
विघ्न हरण 1049.5  
विघ्न निवारण करना  
विघ्न हरना 1049.9

विघ्न हटाना  
विघ्न हरना 1049 9  
विघ्न हरण  
विघ्न हरण 1049.5 ⇨  
विघ्न हरना  
विघ्न हरना 1049 9 ⇨  
विघ्नहर्ता  
गणेश 773 22  
विघ्न हर्ता  
विघ्न हर्ता 1049 15 ⇨  
विघ्नहीन  
विघ्नहीन 1049 14 ⇨  
विघ्नहीनता  
अवरोधहीनता 1049 23  
विघ्नेश  
गणेश 773 22  
विघ्नेश वाहन  
चूहा 127 60  
विघ्नेश्वर  
गणेश 773 22  
विघ्नक्षण  
विद्वान् 319 8  
विघ्नक्षणा  
दूरदर्शिता 301 16  
बुद्धिमत्ता 301 5  
विघ्नक  
विघ्नकर्ता 1085 2  
विघ्नरण  
दिशाहीनता 1099 3  
पर्यटन 1090 6  
मद गमन 1045 3  
विघ्नरण 1085.1 ⇨  
विघ्नरण (दे.)  
चेहलकदमी 1084 7  
विघ्नरण कर्ता  
विघ्नरण कर्ता 1085.2 ⇨  
विघ्नरण मार्ग  
विघ्नरण मार्ग 1063 17 ⇨  
विघ्नरणशील  
चलिष्णु 1090 42  
विघ्नरणीय  
विघ्नरणीय 1085.12 ⇨  
विघ्नरना  
मंद गमन करना 1045 8  
विघ्नरना 1085.10 ⇨  
विघ्नर्षण  
आलेपन 292 3  
विघ्नर्षकरण  
विघ्नर्षकरण 582.4 ⇨  
विघ्नर्षीकरण करना  
विघ्नर्षीकरण करना 582.29 ⇨  
विघ्न  
डगमगता [डगमगती] 1084.46  
पलायनशील 916.18  
विघ्नलन  
उद्देग 377.3  
डगमगाहट 1084.11  
पलायन 916.1

लहक 1084.21  
विघ्नलन 501.4 ⇨  
विघ्नलनशील  
विघ्नलनशील 501 12 ⇨  
विघ्नलनशीलता  
परिवर्तनशीलता 532.2  
विघ्नलना  
लहकना 1084 42  
विघ्नलित होना 501 7  
विस्थापित होना 1036.11  
सचलित होना 1037 13  
विघ्नलित  
पलायित 916 19  
लालसी 359 29  
विघ्नलित 501.11 ⇨  
विघ्नलितता  
अस्थिरचितता 355 3  
उद्विग्नता 377 4  
विघ्नलित न होना  
प्रतिरोध करना 915 4  
विघ्नलित न होना 500 8 ⇨  
विघ्नलित होना  
आतंकित होना 395 16  
डगमगाना 1084 35  
विघ्नलित होना 501.7 ⇨  
साहस टूटना 395 17  
विघ्नार  
आरंभिक अवस्था सूची 994 23  
उक्ति 434 1  
दार्शनिक प्रणाली 760.4  
दुबिधा 501 1  
घारणा 343 7  
परिघर्षा 436.3  
प्रेरणा 499.1  
मत 343 1  
विघ्नार 330 1 ⇨  
विवेचना 427 13  
सुझाव 332.5  
विघ्नारक  
ऋषि 789 2  
दार्शनिक 760.3  
परामर्शक 332 14  
मीमांसक 427.30  
विघ्नारक 330.6 ⇨  
विघ्नार करना  
न्याय करना 874.32  
विघ्नार करना 330.13 ⇨  
विघ्नार कोण  
विघ्नार कोण 330.2 ⇨  
विघ्नार गोष्ठी  
विघ्नार गोष्ठी 694.7 ⇨  
विघ्नल  
कुटा त्रिथि 352.8  
विघ्नारण  
तर्कण 325.9  
विघ्नारण 330.5 ⇨  
विवेचन 427.14

## विचारण पुनर्विचारण

विचारण पुनर्विचारण  
विमर्शन 330.12  
विचारणशीलता  
चलिष्णुता 1090 2  
विचारणा  
मीमांसा 427 12  
विचारणीय  
जिज्ञास्य 305 44  
विचारणीय 330.20 ⇨  
विचारणीय विषय  
वाद विषय 437 8  
विचार न करना  
विचार न करना 330 14 ⇨  
विचारना  
अनुसंधान करना 307 8  
कल्पना करना 308.10  
विचार करना 330 13  
विचार पति  
न्यायाधीश 874 15  
विचार पद्धति  
धर्म 735 1  
विचार परिवर्तन  
मत परिवर्तन 344 3  
विचारपूर्ण  
विचारपूर्ण 330 18 ⇨  
विचारपूर्वक  
विचारिततः 330 29  
विचार प्रवाह  
स्मृति प्रवाह 352 13  
विचार भूमि  
न्यायालय 874 5  
विचारमग्न  
अतर्कामिमुखी 838 14  
ध्यानमग्न 331 11  
विचारमग्नता  
तल्लीनता 331 6  
विचार मिलना  
सहमत होना 337 11  
विचार विनिमय  
परामर्श 332 1  
विचार विमर्श  
परामर्श 332 1  
परिचर्चा 436.3  
विचारण 330.5  
विचार विषयक  
विचारणीय 330 17  
विचार वृत्तला  
स्मृति प्रवाह 352 13  
विचार संपादक  
संपादक सूची 445 16  
विचार संप्रेषक  
संप्रेषक 428 20  
विचार संप्रेषण  
संप्रेषण 428 3  
विचारहीन  
जल्दबाज़ 498.12  
मतांश 343.18  
विचारहीन 330.22 ⇨

विचारहीनतः  
विचारहीनत 330.30 ⇨  
विचारहीनता  
विचारहीनता 330 7 ⇨  
विचाराधीन  
अनिर्धारित 328 15  
दुविधाजनक 501 9  
विचाराधीन 330.21 ⇨  
विवादित 324 23  
विचाराध्यक्ष  
मुख्य न्यायमूर्ति 874 18  
विचारासन  
न्यायाधीश आसन 874 13  
विचारित  
विचारित 330.19 ⇨  
विचारिततः  
विचारितत 330 29 ⇨  
विचारी  
विचारक 330.6  
विचारीय  
विचारीय 330.17 ⇨  
विचार्य  
विचारणीय 330.20  
विवादित 324 23  
विधितक  
विचारक 330.6  
विदेचक 427 31  
विधितन  
दार्शनिक कर्म 760 2  
ध्यान 331.2  
विचारण 330.5  
विदेचन 427.14  
विधिता  
धितानुभूति 353 3  
विधितित  
विचारित 330 19  
विधितित 330 28  
विधितितः  
विदेचक 427 31  
विधित्वा  
संदिग्ध 341 9  
विधिर्गोषा  
खोज इच्छा 336 5  
विधि कीपु  
खोजी 336 25  
विधित्ति  
स्मृति विग्रम 357.2  
विधिग्र  
आश्चर्यजनक 379.9  
चमत्कारी 379.10  
जिज्ञासाजनक 305.43  
विलक्षण 312.16  
विधिय 310.8  
विधिक्षत्रता  
अद्भुत रस 455.12  
विलक्षणता 312 3  
विधियता 310.3

विधिप्रवीर्यसू  
सत्यवती 771 95  
विधिभ्रांग  
धीता 127 53  
विधुबी  
चुबन कर्ता 237 19  
विधेत  
चेतनाहीन 264 20  
विधेतता  
चेतनाहीनता 264 2  
विधेता  
अकल्याण कामी 711 11  
विधेष्ट  
गतिहीन 1042 12  
विधेष्टता  
गतिहीनता 1042 3  
विधेष्टा  
कुलबुलाहट 392 2  
विधैतन्य  
जड 78 23  
जडता 78 4  
विधैदित  
वमित 215.32  
विधिष्ठिति  
विदर 544 4  
विधिष्ठ  
भजित 539 12  
विलग्न 1011 5  
विध्युरण  
फुहार सिंघन 548.15  
विच्छेद  
अध्याय 447 2  
दापत्य विच्छेद 804 6  
नाश 531.1  
भेद नीति 819 7  
विघटन 544 1  
विदर 544 4  
वियोग 388 1  
विच्छेद (दे.)  
परित्याग 1003.1  
विच्छेदक  
कोटिकरण कर्ता 936 14  
विलग्नक 1011 6  
विच्छेदन  
क्रम विस्थापना 992 2  
भंजन 539.1  
विच्छेदन 543.11 ⇨  
विश्लेषण 427 19  
विध्युत  
लक्ष्य ध्युत 931.23  
विस्थापित 1036.13  
रूयित 1032.26  
हस्त 531.11  
विध्युति  
पतन 1031.1  
बहिष्कार 870.13  
सेवा ध्युति 853.15  
आव 1032.1

विद्योह  
प्रिय वियोग 388.3  
विद्योह होना  
वियोग होना 388.5  
विद्योहिन  
वियोगिनी 388 9  
विजङ्क  
विजङ्कन कर्ता 1016 43  
विजङ्कन  
विजङ्कन 1016.1 ⇨  
स्तंभन 758 29  
विजङ्कन (दे.)  
दृढ़ आघारण 1019 7  
विजङ्कन कर्ता  
विजङ्कन कर्ता 1016 43 ⇨  
विजङ्कित  
विजङ्कित 1016 42 ⇨  
स्तंभन कृत 758 42  
स्थावर 1038 7  
विजङ्कित करना  
विजङ्कित करना 1016.36 ⇨  
विजङ्कितता  
स्थावरता 1038 1  
विजन  
निर्जन 617 16  
विजनता  
निर्जनता 617 6  
विजयंत  
ईद 773 5  
विजय  
क्रीड़ा लक्ष्य प्राप्ति 475 24  
जय 912.1  
देवता विमान 772.14  
सफलता 512 1  
विजय गाथा  
विजय गाथा 841 8 ⇨  
विजय गीत  
विजय गाथा 841.8  
विजय घंट  
मंदिर बड़ा घंटा 461.29  
विजयघंट  
504 लकी: माला 228 46  
विजय तिलक  
सम्मान तिलक 857.20  
विजय दंड  
विजयी सेना 932.3  
विजय दशमी  
दशहरा 57.9  
विजय पराजय  
उन्नति अपनति 532.3  
विजय पुर्णिमा,  
दशहरा उत्सव समूह सूची 57.10  
विजयप्रद  
जयप्रद 912.17  
विजय माला  
सम्मान माला 867.21  
विजय यात्रा  
दिविजय यात्रा 907.27

युद्ध यात्रा 907 23  
 विजय लक्ष्मी  
 जय श्री 774.38  
 रण लक्ष्मी 775 5  
 विजय बाहिनी  
 विजयी सेना 932 3  
 विजयशील  
 जयशील 912 16  
 विजय श्री  
 जय श्री 774 38  
 रण लक्ष्मी 775 5  
 विजय सिद्धि  
 जय प्राप्ति 912 2  
 विजय स्तंभ  
 विजय स्तंभ 255 16 ⇨  
 विजया  
 इंद्र ध्वज 773 9  
 कृष्ण माला 771 18  
 दशहरा 57 9  
 दुर्गा 776 7  
 नवशक्ति सूची 776 19  
 भोग 210 1  
 राजसी तबू 600 22  
 विजया बटी  
 भोग गोली 210 2  
 विजया सेवन  
 भोग सेवन 210 4  
 विजयी  
 जयी 912 15  
 पुरस्कृत 857 23  
 सफल 512 6  
 विजयी प्रत्याशी  
 निर्वाचित प्रतिनिधि 888 11  
 विजयी सेना  
 विजयी सेना 932 3 ⇨  
 विजयी होना  
 जीतना 912 12  
 विजयोत्सव  
 दशहरा 57.9  
 विजल्प  
 प्रवाद 440 6  
 विजात  
 वर्ण संकर 731.40  
 विजात [विजाता]  
 जारज 716 18  
 विजाति  
 विजाति 730.2 ⇨  
 विजाति प्रजनन  
 बहिः प्रजनन 243.5  
 विजातीय  
 भिन्न कोटीय 936.10  
 विजातीय 730.19 ⇨  
 विजातीयता  
 भिन्न कोटीयता 936 4  
 विजिज्ञासा  
 खोज इच्छा 336.5  
 विजिटर (अँ)  
 कुलाध्यक्ष 323.19

विजिटिंग कार्ड (अँ)  
 आल्पपरिचय पत्र 704 5  
 विजित  
 दमित 911 14  
 पराजित 913 5  
 मर्दित 911 10  
 विजित करना  
 जीतना 912.12  
 विजित दास  
 विजित दास 651 15 ⇨  
 विजित धन  
 विजित धन 864.28 ⇨  
 विजित संपत्ति  
 विजित संपत्ति 624 4 ⇨  
 विजितेन्द्रिय  
 काम विजेता 237 16  
 जितेन्द्रिय 364 14  
 यति 790.8  
 विजितेन्द्रियता  
 काम विजय 237 7  
 विजुअल (अँ)  
 चाक्षुष 397 34  
 परिकल्पना 520 5  
 विजुअल आर्ट्स (अँ)  
 चाक्षुष कला 397 8  
 विजुअलाइज़र (अँ)  
 परिकल्पक 520.19  
 विजुअलाइज़्ड (अँ)  
 परिकल्पित 520 18  
 विजेता  
 जयी 912 15  
 विजोय  
 जेय 518 20  
 विजोयता  
 जेयता 518.8  
 विजोगन  
 वियोगिनी 388 9  
 विजोगी  
 वियोगी 388 8  
 विज्ञ  
 ज्ञानी 305 30  
 परिज्ञाता 305.33  
 मुनि 789 15  
 विद्वान् 319 8  
 विज्ञाता  
 अभिज्ञाता 305 14  
 विज्ञप्ति  
 घोषणा 441 10  
 निवेदन 350.1  
 ससूचना 441 8  
 समाचार विज्ञप्ति 445.21  
 सूचना 441.1  
 ईडबिल 442 12  
 विज्ञापिका  
 स्मरण पत्र 356.9  
 विज्ञात  
 र्ख्यात 847.3  
 ज्ञात 305 29

परिज्ञात 305 32  
 रहस्यहीन 822 22  
 सज्ञापित 441 19  
 विज्ञातता  
 अगुप्तता 822 9  
 प्रकटता 822 8  
 विज्ञातव्यता  
 ज्ञान योग्यता 305 21  
 विज्ञाता  
 ज्ञानी 305 30  
 विज्ञान  
 अध्यात्म 761 1  
 प्रत्यक्ष ज्ञान 305 5  
 विज्ञान 307 1 ⇨  
 विवेक 301 7  
 विशेषज्ञता 305 17  
 विज्ञान (भरत)  
 विभाव 358 7  
 विज्ञान धन  
 केवल ज्ञान 761 5  
 विज्ञानमय  
 निर्गुण ब्रह्म 764 28  
 विज्ञानमय कोश  
 आत्मा आवरण सूची 763 8  
 विज्ञान मातृक  
 गीतम् बुद्ध 793 1  
 विज्ञानवाद  
 नास्तिकतावाद 760 14  
 बौद्ध धर्म 737 6  
 विज्ञानवाद 760 24 ⇨  
 विवेकवाद 325 16  
 विज्ञानवादी  
 विवेकवादी 325 25  
 विज्ञान विरुद्ध  
 विज्ञान विरुद्ध 307.14 ⇨  
 विज्ञान विषयक  
 विज्ञानीय 307 11  
 विज्ञान संगत  
 विज्ञान संगत 307 13 ⇨  
 विज्ञान सम्मतता  
 सम्मतता 307.2  
 विज्ञानात्मक  
 विज्ञान संगत 307.13  
 विज्ञानानुकूल  
 विज्ञान संगत 307.13  
 विज्ञानी  
 अध्यात्मज्ञ 761.25  
 विज्ञानी 307.12 ⇨  
 विज्ञानीय 307 11  
 विज्ञानीय  
 विज्ञानीय 307.11 ⇨  
 विज्ञानेत्थर  
 महाज्ञानी 305.31  
 विज्ञापक  
 विज्ञापक 442.4 ⇨  
 विज्ञापन  
 अभिव्यक्ति 428 1  
 प्रचार 442.1

विटामिन डी१, डी२, डी३  
 विज्ञापन 442.3 ⇨  
 विज्ञापन कृति 442.5  
 ईडबिल 442 12  
 विज्ञापन कृति  
 विज्ञापन कृति 442.5 ⇨  
 विज्ञापन दाता  
 विज्ञापक 442 4  
 विज्ञापन पटल  
 होर्डिंग 442 14  
 विज्ञापन फ़िल्म  
 विज्ञापन फ़िल्म 472.9 ⇨  
 विज्ञापयिता  
 संज्ञापक 441 20  
 विज्ञाप्या  
 संज्ञापनेच्छा 441 8  
 विज्ञेय  
 जेय 305 38  
 बोध्य 518 17  
 विज्ञेयता  
 ज्ञेयता 305 20  
 विज्ञेयवाद  
 ज्ञेयवाद 760 7  
 विटंकिट  
 टाइम्ड 413 29  
 मुद्रांकित 414 24  
 विट  
 कुटिल 818.7  
 तत्कालधी 301 23  
 वार्तालाप कुराल 425 25  
 विट 467.18 ⇨  
 विद्रुषक 467.19  
 वेश्यागामी 807.16  
 व्यभिचारी 806 10  
 विटप  
 छाया वृक्ष 111 19  
 विस्तार 981.2  
 वृक्ष 111.18  
 विटपी  
 वृक्ष 111 18  
 शाखायुक्त 114 15  
 विट सबण  
 काला नमक 279.6  
 विटामिन  
 विटामिन 179 16 ⇨  
 विटामिन आर से जेड (अनिश्चित)  
 विटामिन सूची 179.17  
 विटामिन ई  
 विटामिन सूची 179 17  
 विटामिन ए, ए२, ए३  
 विटामिन सूची 179 17  
 विटामिन ऐल 1, ऐल 2,  
 विटामिन सूची 179.17  
 विटामिन के, के 1, के 2, के 3  
 विटामिन सूची 179.17  
 विटामिन जे  
 विटामिन सूची 179.17  
 विटामिन डी 1, डी 2, डी 3  
 विटामिन सूची 179.17

## विटामिन बी

### विटामिन बी

विटामिन सूची 179 17  
 विटामिन बी-1 से बी-15  
 विटामिन सूची 179 17  
 विटामिन बी कंप्लैक  
 विटामिन सूची 179.17  
 विटामिन सी, सी-2  
 विटामिन सूची 179 17  
 विटामिन सूची  
 विटामिन सूची 179 17 ⇌  
 विट्टल  
 विट्टल अवतार 769 12  
 विष्णु 768 1  
 विट्टल अवतार  
 विट्टल अवतार 769 12 ⇌  
 विट्टल नाथ  
 अष्ट कृष्ण सूची 771 3  
 विठर  
 वार्तालाप कुशल 435 25  
 विठल  
 विट्टल अवतार 769 12  
 विठोबा  
 विट्टल अवतार 769 12  
 विडंबन  
 उत्पीड़न 391 10  
 निंदन 843 2  
 विडंबना  
 उपहास 844 1  
 छल 827 7  
 मायावी दृश्य 312.8  
 हताशा 376 2  
 विडंबनीय  
 उपहास्य 844.11  
 विडंबित  
 कातर 380.11  
 छलित 827 23  
 हताशा 376 6  
 विडंबी  
 छली 827 24  
 विडरना  
 पलायन करना 916.10  
 विडाल  
 नर बिल्ली 127 57  
 विडाल ब्रत  
 कपटपूर्ण सरलता 818.2  
 धर्म पाखंड 825 3  
 विडालाक्षी  
 राक्षस स्त्री सूची 784.23  
 विडाली  
 बिल्ली 127.56  
 विदूर  
 विदूर 17.15  
 विडीजा  
 इंद्र 773 5  
 विदुलवण  
 काला नमक 279.6  
 वितंडा  
 तकरार 708 7

वितंडा 324.5 ⇌  
 वितंडा करना  
 वितंडा करना 324.20 ⇌  
 वितंडाकारी  
 वितंडावादी 324 27  
 वितंडावादी  
 वितंडावादी 324 27 ⇌  
 वितंस  
 कूट पाश 1013.9  
 वितत  
 प्रसारित 979.17  
 वितति  
 आयतन 966 3  
 वितानन 600 4  
 वितना [वितनी]  
 उतना [उतनी] 946 13  
 वितनिता  
 वितानक 600 32  
 वितरक  
 वितरक 656.8 ⇌  
 वितरण  
 वितरण 656.7 ⇌  
 वितरण (दे.)  
 प्रदान 638.1  
 वितरण करना  
 वितरित करना 658.15  
 वितरण कर्ता  
 वितरक 656 8  
 वितरण केंद्र  
 वितरण केंद्र 656.9 ⇌  
 वितरिका  
 वितरिका नदी 20.2  
 वितरिका नदी  
 वितरिका नदी 20 2 ⇌  
 वितरित  
 वितरित 656.16 ⇌  
 वितरित करना  
 वितरित करना 656 15 ⇌  
 वितरिता  
 वितरक 656.8  
 वितर्क  
 वितर्क 325.4 ⇌  
 संदेह 341 3  
 वितर्कित  
 विमर्शित 330.28  
 वितर्क्य  
 जिज्ञास्य 305.44  
 संदिग्ध 341 9  
 वितल  
 नाग निवास 778.15  
 सात पाताल सूची 258.8  
 वितस्ति  
 बालिरत 959.14  
 बालिरत 150 5  
 वितान  
 आकाश 2.1  
 प्रसार 979.3  
 वस्त्र सायबान 615.4

वितान 600.16 ⇌  
 विस्तार 981.2  
 वेदी 745 45  
 वितान (दे.)  
 तनाव 1013.6  
 वितानक  
 चंदोबा 600 18  
 वितानक 600.32 ⇌  
 वितानन  
 वितानन 600.4 ⇌  
 वितानन (दे.)  
 तनाई 1013.5  
 वितानना  
 वितानित करना 600 28  
 वितानित  
 प्रसारित 979 17  
 वितानित 600.31 ⇌  
 वितानित करना  
 वितानित करना 600.28 ⇌  
 वितुंड  
 हाथी 127.38  
 वितुष्ण  
 अतृपित 180.20  
 लोभहीन 360.15  
 वितुष्णा  
 अतृषा 180.6  
 घृणा 370.2  
 विरक्ति 386 2  
 वित्त  
 धन 628 1  
 धन संपत्ति 624 10  
 वित्त 633.1 ⇌  
 सम्मान: कारण सूची 854 6  
 वित्तकाम  
 धन इच्छुक 628 24  
 वित्त गोपता  
 कुबेर 779 4  
 कोशाध्यक्ष 630 12  
 वित्तद  
 धनप्रद 628.27  
 वित्तपाल  
 कोशाध्यक्ष 630 12  
 वित्त पेटी  
 रुपया धैली 672.10  
 वित्त प्रदान  
 वितीय सहायता 633.2  
 वित्तवान  
 धनाढ्य 626 14  
 वित्त शाठ्य  
 आर्थिक बेईमानी 816.3  
 वित्तहीन  
 निर्धन 627.20  
 वित्त [विनी]  
 उतना [उतनी] 946 13  
 वित्तगम  
 धन प्राप्ति 628.2  
 वित्तीय  
 वित्तीय 633.32 ⇌

वित्तीय वर्ष  
 वित्तीय वर्ष 42.14 ⇌  
 वित्तीय सहायता  
 वित्तीय सहायता 633.2 ⇌  
 वित्तेश  
 कुबेर 779.4  
 विधुर  
 अल्प 942 13  
 विधुरा  
 विधवा 804 15  
 वियोगिनी 388 9  
 विद  
 परिज्ञाता 305 33  
 विदग्ध  
 कला प्रेमी 400.17  
 जला [जली] 197.37  
 तत्काली 301 23  
 दग्ध 108.13  
 दग्ध (धातु) 108.17  
 प्रवीण 303 22  
 प्रौढी 301.25  
 बुद्धिमान 301 21  
 विद्वान 319 8  
 विदग्ध [विदग्धा]  
 ठीठ 860.28  
 विदग्धता  
 तत्काल बुद्धि 301.2  
 नागरता 733.5  
 प्रवीणता 303.8  
 विद्वता 319.1  
 विदग्धा  
 प्रगल्भा नायिका 456.10  
 विदर  
 विदर 544.4 ⇌  
 विदरक  
 विदारक 544.19  
 विदरण  
 फोड़ा 167.2  
 विदरण 544.2 ⇌  
 विदरण करना  
 विदीर्ण करना 544.13  
 विदरित  
 तक्का [तक्की] 544.20  
 विदर्शना  
 अंतर्ज्ञान 761.3  
 विदल  
 खंड 938.1  
 दली दाल 188.2  
 पल्लवहीन 115.14  
 बॉस बेंट. टोकरा 677.4  
 शाखा 114.10  
 विदलक  
 दलने वाला 540.20  
 विदलन  
 दलन 540.5  
 पददलन 911.5  
 विदलान्न  
 दलहन 188.1

- विदालित  
दला [दली] 540.19  
प्रस्फुटित 119.10
- विदा  
गमन 1091.1  
विदायगी 800.31  
विदा 1058.1 ⇨  
विदा गीत 796.28
- विदाई  
विदायगी 800.31  
विदा कर्म 1058.2  
विदा विषयक 1058.6
- विदाई भोज  
समापन समारोह सूची 522.8
- विदाई समारोह  
समापन समारोह सूची 522.8
- विदा करना  
विदा करना 1058.3 ⇨
- विदा कर्म  
विदा कर्म 1058.2 ⇨
- विदा गीत  
विदा गीत 796.28 ⇨
- विदा दान  
विदा कर्म 1058.2
- विदा देना  
विदा करना 1058.3
- विदा मॉगना  
विदा मॉगना 1058.5 ⇨
- विदाय  
विदा 1058.1  
वियोग 388.1
- विदारक  
नीसादर 87.14  
विदारक 544.19 ⇨
- विदारण  
उत्पीड़न 391.10  
विदीर्णन 544.3
- विदारिका  
विदाई 165.6
- विदारी  
जर्मीकंद 189.21  
विदारक 544.19
- विदा सेना  
विदा मॉगना 1058.5
- विदा विषयक  
विदा विषयक 1058.6 ⇨
- विदाह  
ताप 103.1  
पिताधिक्य 163.28
- विदाही  
अग्नि 106.1
- विदा होना  
विदा होना 799.57 ⇨  
विदा होना 1058.4 ⇨
- विदित  
उद्घाटित (रहस्य) 822.25  
ख्यात 847.3  
ज्ञात 305.29
- संज्ञात 441.18  
संज्ञापित 441.19  
स्वीकृत 337.16
- विदित कराना  
संज्ञापित करनः 441.13
- विदित ज्ञान  
परिज्ञान 305.13
- विदितता  
सर्व संज्ञातता 441.9
- विदिशा  
उपदिशा 29.13  
चक्र. आठवाँ भाग 960.5  
दिशाहीनता 1099.3
- विदिशा कोण  
अर्ध समकोण 970.7
- विदिशा कोणः चतुर्थांश कोण  
अंतरयुक्त कोण 970.8
- विदिशीय  
उपदिशा विषयक 29.34
- विदीर्ण  
अतर्विधित 271.22  
नष्ट 531.7  
विदीर्ण 544.18 ⇨  
विस्फारित 119.12
- विदीर्ण करना  
विदीर्ण करना 544.13 ⇨
- विदीर्णन  
विदीर्णन 544.3 ⇨
- विदु  
बुद्धिमान 301.21
- विदुर  
ज्ञानी 305.30  
नागरतापूर्ण 733.16  
बुद्धिमान 301.21  
बुद्धिमान व्यक्ति 301.6  
विदुर 771.87 ⇨  
विद्वान व्यक्ति 319.2  
बड्यत्र कर्ता 827.25
- विदुष [विदुषी]  
पूर्णविद्य 318.5  
विद्वान व्यक्ति 319.2
- विदुत्तम  
महाज्ञानी 305.31  
सर्वज्ञ 305.37
- विदुर  
विदुर 17.15 ⇨  
सुदुरस्थ 32.8
- विदुरगत  
दुरगत 1091.12
- विदुर गिरि  
पौराणिक पर्वत सूची 17.8
- विदुरज  
लहसुनिया 96.25
- विदुर मणि  
लहसुनिया 96.25
- विदुराबल  
विदुर 17.15
- विदुषक  
कामुक 237.14  
दुर्गुणकारक 314.9  
विदुषक 467.19 ⇨  
यिनोदी 325.13  
शकार 467.20  
हास्य अभिनेता 464.16
- विदुषकता  
विदुषकता 837.8 ⇨
- विदुषकतापूर्ण  
विदुषकतापूर्ण 837.17 ⇨
- विदुषण  
तंत्र क्रिया सूची 758.5
- विदुषण यंत्र  
विदुषण यंत्र 758.24 ⇨
- विदुषित  
दुर्गुणी 314.8  
प्रदुषित 217.8  
सज्ञा [सर्की] 197.48
- विदेव  
यक्ष 779.1  
राक्षस 784.1
- विदेश  
परदेश 34.11  
सीमांतर प्रदेश 1001.26
- विदेश कार्यालय  
विदेश कार्यालय 654.8 ⇨
- विदेश गमन  
प्रवासन 618.4
- विदेशाज शब्द  
उद्गमानुसार शब्द सूची 423.4
- विदेशता  
सीमांतरता 1001.24
- विदेश यात्रा  
'विदेशात 1090.11
- विदेश वाच  
प्रवासन 618.4
- विदेश वासी  
परदेश वासी 34.19
- विदेश शाखा  
'विदेश कार्यालय 654.8
- विदेशाटन  
विदेशाटन 1090.11 ⇨
- विदेशी  
आप्रवासी 618.30  
परदेश वासी 34.19  
परदेशीय 34.18  
सीमांतरीय 1001.40
- विदेशीय  
परदेशीय 34.18  
परराष्ट्रीय 881.30
- विदेह  
अजीवित 247.8  
अनासक्त 366.5  
अंशरीरी 139.14  
चेतनाहीन 264.20  
जनक 770.28  
जनक राज्य 770.30
- निराकार 967.13  
विहार 28.52  
ब्रह्मा 766.1  
सुंदर काया 158.1  
विदेह कुमारी  
सीता 770.86
- विदेहता  
चेतनाहीनता 764.2  
निराकारता 967.2
- विदेही  
ब्रह्म 764.24  
सीता 770.86
- विदोहन  
दोहन 554.6
- विद्ध  
अतर्विधित 271.22  
आषड् 1013.22
- विद्ध करना  
छेदना 271.20
- विद्धकर्ण  
कनछिदा [कनछिदी] 798.42
- विद्धहृदय  
भग्नहृदय 391.33
- विद्ध होना  
छिदना 271.19
- विद्य  
उपस्थित 1021.9  
परिज्ञाता 305.33  
वर्तमान 66.6  
विद्य 318.4 ⇨  
विद्वान 319.8
- विद्यता  
वर्तमानता 66.1
- विद्यमान  
अस्तित्वशाली 246.11  
उपस्थित 1021.9  
जीवित 246.13  
वर्तमान 66.6  
वास्तविक 820.23
- विद्यमानता  
अस्तित्व 246.1  
उपस्थिति 1021.2  
वर्तमानता 66.1
- विद्यांत  
दीक्षांत 321.6  
विद्यांत संस्कार 798.24
- विद्यांत संस्कार  
विद्यांत संस्कार 798.24 ⇨
- विद्या  
अभिमंत्रण 758.6  
आकाशचारी वटी 474.22  
उपवेद 740.36  
गुर 517.4  
ज्ञान 305.1  
तत्र क्रिया 758.3  
तिलिस्म 474.13  
धर्म लक्षण सूची 737.29  
नगर क्लृप्त सूची 13.2

## विद्या (दे.)

विज्ञान 307.1  
 विद्या 318.1 ⇨  
 सम्मान कारण सूची 854.6  
 सरो 13.23  
 साधु सिद्धि 790.29  
 विद्या (दे.)  
 शिक्षा 321.1  
 विद्या उपाधि  
 शिक्षा उपाधि 322.26  
 विद्यागम  
 शिक्षा अर्जन 321.22  
 विद्या देवी  
 सरस्वती 775.8  
 विद्याधर  
 जादुगर 774.11  
 देव योनि सूची 772.37  
 विद्याधर 779.15 ⇨  
 शिक्षित 321.41  
 विद्याधर विषयक  
 विद्याधरीय 779.18  
 विद्याधर स्त्री  
 विद्याधर स्त्री 779.16 ⇨  
 विद्याधरी  
 परी 782.4  
 विद्याधर स्त्री 779.16  
 विद्याधरीय  
 विद्याधरीय 779.18 ⇨  
 विद्याधरेंद्र  
 जाबवान 781.10  
 विद्याधिप  
 विद्वान 319.8  
 विद्याधिराज  
 महा विद्वान 319.3  
 विद्यापति  
 महा विद्वान 319.3  
 विद्या परीक्षा  
 शिक्षा परीक्षा 322.13  
 विद्यापीठ  
 शिक्षालय सूची 321.11  
 विद्या प्राप्ति  
 शिक्षा अर्जन 321.22  
 विद्याभ्यास  
 शिक्षा अर्जन 321.22  
 विद्यारंभ  
 ब्रह्मचर्य प्रवेश 234.8  
 शिक्षा आरंभ 321.2  
 सोलह संस्कार सूची 798.3  
 विद्यारंभ संस्कार  
 विद्यारंभ संस्कार 798.23 ⇨  
 विद्याराज  
 विष्णु 788.1  
 विद्याराशि  
 शिव 787.1  
 विद्यार्जन  
 शिक्षा अर्जन 321.22  
 विद्यार्जन काल  
 ब्रह्मचर्य आरंभ 234.1

विद्यार्थी  
 छात्र 323.26  
 विद्यालय  
 शिक्षालय 321.9  
 शिक्षालय सूची 321.11  
 विद्यालय परिसर  
 विद्यालय परिसर 604.2 ⇨  
 विद्यालय विभाग  
 शिक्षालय विभाग 321.15  
 विद्या वंश  
 अध्यापक वर्ग 323.10  
 विद्यावान [विद्यावती]  
 शिक्षित 321.41  
 विद्या विभाग  
 शास्त्र 318.2  
 विद्या विशिष्ट  
 विशेषज्ञ 305.36  
 विद्याविहीन  
 अशिक्षित 321.42  
 निरक्षर 320.5  
 विद्या व्यसन  
 शिक्षा अर्जन 321.22  
 विद्या शुल्क  
 शिक्षा शुल्क 665.5  
 विद्या स्नातक  
 स्नातक उपाधि 322.28  
 विद्याहीन  
 अशिक्षित 321.42  
 विद्युज्ज्वाल  
 विद्युत चमक 55.10  
 विद्युत  
 इंद्र वज्र 928.8  
 चार्ज 101.7  
 मेघ विद्युत 55.9  
 विद्युत 102.1 ⇨  
 विद्युत इंजन  
 विद्युत इंजन 1078.2 ⇨  
 विद्युत करंट  
 विद्युत करंट 102.2 ⇨  
 विद्युत चमक  
 विद्युत चमक 55.10 ⇨  
 विद्युत तरंग  
 विद्युत तरंग 1040.8 ⇨  
 विद्युत धारा  
 विद्युत करंट 102.2  
 विद्युतन  
 चार्जन 101.8  
 विद्युतपताक  
 विद्युत मेघ 55.8  
 विद्युत परिपथ  
 विद्युत सर्किट 102.5  
 विद्युत पात  
 विद्युत पात 55.11 ⇨  
 विद्युत मृत्यु  
 बिजली-मृत्यु दंड 871.6  
 विद्युत मेघ  
 विद्युत मेघ 55.6 ⇨

विद्युत मोटर  
 विद्युत इंजन 1078.2  
 विद्युत यान  
 विद्युत यान 1070.7 ⇨  
 विद्युत रोधित्र (प्र)  
 इंसुलेटर 102.16  
 विद्युत सर्किट  
 विद्युत सर्किट 102.5 ⇨  
 विद्युत स्पार्क  
 स्पार्क 101.11  
 विद्युता  
 अप्सरा सूची 782.3  
 विद्युतोन (प्र)  
 इलेक्ट्रोन 78.12  
 विद्युत्पात  
 विद्युत पात 55.11  
 विद्युत्प्रभा  
 नाग स्त्री सूची 778.24  
 विद्युत्वान  
 मेघ 55.1  
 विद्युदुन्मेष  
 विद्युत चमक 55.10  
 विद्युदोन (प्र)  
 इलेक्ट्रोन 78.12  
 विद्युद्दामा  
 विद्युत चमक 55.10  
 विद्युद्बल्ली  
 विद्युत चमक 55.10  
 विद्युद्ब्रज  
 विद्युत मेघ 55.6  
 विद्युन्माल  
 वानर सूची 781.7  
 विद्युन्माला  
 मेघ समूह 55.2  
 विद्युन्मृत्यु  
 बिजली-मृत्यु दंड 871.6  
 विद्युत्स्लेखा  
 मेघ विद्युत 55.9  
 विद्युत चमक 55.10  
 विद्येश  
 शिव 787.1  
 विद्येश्वर  
 देव योनि सूची 772.37  
 विद्योत  
 विद्युत चमक 55.10  
 विद्योतक  
 आलोकक 285.46  
 विद्योपार्जन  
 शिक्षा अर्जन 321.22  
 विद्यधि  
 फोका 167.2  
 विद्यारव  
 दया द्रवण 834.5  
 द्रवण 80.2  
 पलायन 916.1  
 भय 395.1  
 ज्ञाव 1032.1

विद्यारवक  
 द्रावक 80.7  
 सुहागा 281.33  
 विद्यारवित  
 द्रवित 80.6  
 विद्यारवी  
 द्रावक 80.7  
 संगलक तत्त्व 565.12  
 विद्युत  
 द्रवित 80.6  
 विद्युति  
 द्रवण 80.2  
 पलायन 916.1  
 विद्युम  
 नव पल्लव 115.2  
 प्रवाल 97.4  
 मृगा 97.1  
 मोती 97.2  
 विद्युम लता  
 प्रवाल वृक्ष 97.8  
 विद्युप  
 कुडील 155.5  
 कुरूप 156.4  
 विरूपितांग 153.24  
 विद्युपता  
 कुडीलता 155.3  
 कुरूपता 156.2  
 विद्युपी [विद्युपिणी]  
 कुरूप 156.4  
 विद्योह  
 विद्योह 903.3 ⇨  
 विश्वासघात 827.4  
 सत्ता विरोध 902.7  
 विद्योह (शब्दार्थ)  
 मरियम 791.19  
 विद्योह करना  
 विद्योह करना 903.14 ⇨  
 विद्योह कर्ता  
 विद्योही 903.18  
 विद्योह ज्वाला  
 क्रांति ज्वाला 903.7  
 विद्योही  
 विद्योही 903.18 ⇨  
 सत्ता विरोधी 902.28  
 विद्युपजन  
 ऋषि 789.2  
 विद्युत्समाज 319.4  
 विद्युत्कल्प  
 अल्प शिक्षित 321.43  
 विद्युत्तम  
 शिव 787.1  
 विद्युत्ता  
 विद्युत्ता 319.1 ⇨  
 विद्युत्तापूर्ण  
 विद्युत्तापूर्ण 319.7 ⇨  
 विद्युत्समाज  
 विद्युत्समाज 319.4 ⇨

**विद्वन्मंडली**  
*विद्वन्मंडली 319.5 ⇨*  
**विद्वान्**  
 ज्ञानी 305.30  
 पूर्णविद्य 318.5  
*विद्वान् 319.8 ⇨*  
 विद्वान् व्यक्ति 319.2  
 विशेषज्ञ 305.36  
**विद्वान् [विद्युषी]**  
 सुशिक्षित 321.45  
**विद्वान् (वे.)**  
 विद्य 318.4  
**विद्वान् व्यक्ति**  
*विद्वान् व्यक्ति 319.2 ⇨*  
**विद्वेष**  
 ईर्ष्यालुता 709.2  
 घृणा 370.2  
**विद्वेषपूर्ण**  
 ईर्ष्यापूर्ण 709.4  
 वैमनस्यपूर्ण 706.21  
**विद्वेषपूर्णता**  
 ईर्ष्यालुता 709.2  
**विद्वेषिणी**  
 यक्षिणी सूची 779.14  
**विद्वेषी**  
 ईर्ष्यालु 709.6  
 शत्रु 706.2  
**विद्वेष्टा**  
 ईर्ष्यालु 709.6  
 शत्रु 706.2  
**विद्य**  
 अनुसार 514.26  
 सदृश्य 309.20  
 सादृश्य. उक्ति सूची 309.26  
**विद्यना**  
 ईश्वर 764.1  
 प्रारब्ध 260.1  
 ब्रह्मा 766.1  
**विद्यर**  
 उधर 30.8  
**विद्यर्म**  
 अनैतिकता 816.1  
 परधर्म 735.8  
**विद्यर्मी**  
 परधर्मी 735.18  
**विद्यवा**  
*विद्यवा 804.15 ⇨*  
**विद्यवा आश्रम**  
 विद्यवाश्रम 801.11  
**विद्यवापन**  
 वैद्य 804.14  
**विद्यवापन**  
*विद्यवाश्रम 801.11 ⇨*  
**विद्यवा होना**  
*विद्यवा होना 804.24 ⇨*  
**विद्योत्तरण**  
 कर्मांतरण 397.31

**विधा**  
 कला विधा 397.13  
 विभाग 937.3  
**विधातव्य**  
 रचनीय 527.1  
**विधाता**  
 ईश्वर 764.1  
 कामदेव 773.12  
 नियत्रक 899.12  
 नियत कर्ता 68.17  
 प्रारब्ध 260.1  
 प्रारब्ध विधाता 260.7  
 ब्रह्मा 766.1  
 ब्रह्मा पुत्र सूची 766.10  
 रचेता 527.14  
 विधायक 878.22  
 विश्वकर्मा 773.44  
 विष्णु 768.1  
 व्यवस्थापक 893.14  
 सृष्टि रचेता 529.5  
**विधात्री**  
 जनयित्री 243.11  
 ब्रह्मा शक्ति 766.4  
 माता 717.7  
 विधायिका 881.26  
 सरस्वती 775.8  
**विधायन**  
 कार्य विधि 514.1  
 कार्यान्वयन 505.5  
 धर्म विधि 747.3  
 नियम 879.1  
 परंपरा 795.1  
 प्रबंध 655.5  
 रचना कर्म 527.1  
 विधि (क्रानून) 878.1  
 विधि संहिता 878.6  
 वैकल्पिक साधन 558.5  
 व्यवस्था 893.5  
 संविधान 878.16  
**विधायन असम्मत**  
 संविधान असम्मत 878.30  
**विधायन असम्मता**  
 असंवैधानिकता 878.18  
**विधायन**  
 विधिज्ञ 878.13  
**विधानज्ञ**  
 विधिज्ञ 878.13  
**विधान ज्ञान**  
 विधि ज्ञान 878.12  
**विधानन**  
 प्रबंधन 855.6  
 विधायन 878.21  
**विद्यन परिषद**  
*विधान परिषद 889.5 ⇨*  
 संविधान परिषद 889.7  
**विधान विच्छेद**  
 अवैध 878.27

**विधान सभा**  
 संविधान परिषद 889.7  
**विधान सम्मत**  
 संविधान सम्मत 878.29  
**विधान सम्मतता**  
 संवैधानिकता 878.17  
**विधान सौध**  
*विधान सौध 695.6 ⇨*  
*विधान सौध 889.6 ⇨*  
**विधानानुसारता**  
 वैधता 878.14  
**विधानिका**  
 विधान परिषद 889.5  
 विधायिका 881.26  
**विधानित**  
 प्रबंधित 655.23  
**विधानी**  
 विधिज्ञ 878.13  
**विधानीय**  
 संविधानीय 878.28  
**विधायक**  
 परिषद सदस्य 889.8  
 प्रबन्धक 655.9  
*विधायक 878.22 ⇨*  
 व्यवस्थापक 893.14  
 संस्थापक 693.10  
**विधायन**  
*विधायन 878.21 ⇨*  
**विधायन करना**  
*विधायन करना 878.24 ⇨*  
**विधायनीय**  
 परिषद विषयक 889.26  
**वि.यिका**  
 राज्य अंग सूची 881.25  
 विधान परिषद 889.5  
*विधायिका 881.26 ⇨*  
**विधायिका विषयक**  
 परिषद विषयक 889.26  
**विधायित**  
*विधायित 878.31 ⇨*  
 शासित 890.18  
**विधायी**  
 परिषद विषयक 889.26  
**विधा संख्या**  
*विधा संख्या 949.14 ⇨*  
**विधा संख्या (जैसे: एकधा, द्विधा)**  
 विधा संख्या 949.14  
**विधि**  
 ईश्वर 764.1  
 उपाय 517.3  
 कार्य विधि 514.1  
 काव्य प्रवृत्ति 453.13  
 गतिविधि 502.2  
 धर्म विधि 747.3  
 प्रथा 795.9  
 ब्रह्मा 766.1  
 विधि (क्रानून) 878.1  
 विष्णु 768.1

**विधि (क्रानून)**  
*विधि (क्रानून) 878.1 ⇨*  
**विधि अपालन**  
*विधि अपालन 515.2 ⇨*  
**विधिक**  
 तकनीकी 514.15  
 धर्म सम्मत 735.12  
**विधिक चिकित्सा**  
*विधिक चिकित्सा 173.4 ⇨*  
**विधिक विच्छेद**  
*विधिक विच्छेद 804.7 ⇨*  
**विधि का विधान**  
 ईश्वरीय विधान 878.19  
 प्रारब्ध 260.1  
**विधिज्ञ**  
*विधिज्ञ 878.13 ⇨*  
**विधि ज्ञान**  
*विधि ज्ञान 878.12 ⇨*  
**विधितः**  
*विधित 878.32 ⇨*  
 विधिपूर्वक 514.19  
**विधित**  
 नियत 68.16  
 विधायित 878.31  
**विधितता**  
 नियतता 68.8  
**विधि निरीक्षक**  
 निरीक्षक 284.17  
**विधि निर्देश**  
*विधि निर्देश 514.2 ⇨*  
**विधि निषिद्ध**  
 दिनिषिद्ध 880.14  
**विधि निषेध**  
 विनिषेध 880.5  
**विधि पालन**  
 नियम पालन 879.7  
*विधि पालन 514.3 ⇨*  
**विधि पालन करना**  
 कार्यविधि पालन करना 514.10  
**विधि पालन न करना**  
*विधि पालन न करना 515.5 ⇨*  
**विधिपूर्वक**  
*विधिपूर्वक 514.19 ⇨*  
 संस्कारपूर्वक 798.49  
**विधि प्रयोग**  
 विधि पालन 514.3  
**विधिबद्ध**  
 धर्म सम्मत 735.12  
**विधि भंग**  
 विधि अपालन 515.2  
**विधिमान्य**  
 वैध 878.26  
**विधिमान्यता**  
 वैधता 878.14  
**विधि योग**  
 विधि पालन 514.3  
**विधि लेख**  
 प्रारब्ध लेख 260.6

## विधि लेखा

**विधि लेखा**  
 प्रारम्भ लेख 260 6  
**विधि लोप**  
 नियम भंजन 879 8  
 विधि अपालन 515.2  
**विधिवत्**  
 विधिपूर्वक 514.19  
 संस्कारपूर्वक 798 49  
**विधिवत् नियुक्ति तक पद सँभालना**  
 कार्यकारी होना 653.29  
**विधिवत्**  
 औपचारिकता पूर्वक 184.12  
 संस्कारपूर्वक 798 49  
**विधिवत्ता**  
 औपचारिकता 184.3  
 वैधता 878 14  
**विधिवश**  
 प्रारम्भाधीन 260 27  
 संयोगवश 69 12  
**विधिवशता**  
 प्रारम्भाधीनता 260.2  
**विधिवशात्**  
 संयोगवश 69.12  
**विधि वाक्य**  
 विधि निर्देश 514.2  
**विधि वाहन**  
 हंस 126 76  
**विधि विधान**  
 धर्म विधि 747 3  
**विधि विधान ग्रन्थ**  
 सूत्र ग्रन्थ 740.48  
**विधि विरुद्ध**  
 अवैध 878.27  
*विधि विरुद्ध 515 8 ⇨*  
**विधि विरुद्धता**  
 अवैधता 878 15  
**विधि विशेषज्ञ**  
 विधिज्ञ 878.13  
**विधि विशेषज्ञता**  
 विधि ज्ञान 878 12  
**विधि विहित**  
 विधि संगत 514 14  
**विधि वेत्ता**  
 वकील 874 26  
**विधि वैद्यक**  
 विधिक चिकित्सा 173.4  
**विधि व्याख्याता**  
 विधिज्ञ 878 13  
**विधि शास्त्रज्ञता**  
 विधि ज्ञान 878.12  
**विधि संगत**  
*विधि संगत 514.14 ⇨*  
 वैध 878.26  
**विधि संहिता**  
*विधि संहिता 878.6 ⇨*  
 संविधान 878 16  
**विधि से**  
 विधिपूर्वक 514.19

**विधिहीन**  
*विधिहीन 515.7 ⇨*  
**विधिहीनता**  
*विधिहीनता 515.11 ⇨*  
**विधिहीनता**  
*विधिहीनता 515.1 ⇨*  
**विधीय**  
 कार्य विधीय 514.13  
*विधीय 878.25 ⇨*  
**विधु**  
 चंद्रमा 82  
 शिव 767 1  
**विधु द्वारा**  
 रोहिणी 774.79  
**विधुमिया**  
 कुमुद 14.9  
 रोहिणी 774.79  
**विधुर**  
 एकाकी 697.14  
 मनोव्यथित 391 26  
 मित्रहीन 705 29  
*विधुर 804.19 ⇨*  
 वियोगी 388 8  
**विधुरता**  
 दांपत्य भग 804.1  
 प्रिय वियोग 388.3  
*विधुरता 804 18 ⇨*  
**विधुरता (दे.)**  
 पत्नीहीनता 804 13  
**विधुर होना**  
*विधुर होना 804 25 ⇨*  
**विधुरा**  
 वियोगिनी 388 9  
**विधुत**  
 देश निर्वासित 870.27  
 निष्कासित 1092 18  
**विधुति**  
 धारण 1019 8  
 धैर्य 394.6  
**विधेय**  
 उदरय 508.2  
 करणीय 505 18  
 प्रतिपाद्य 326 15  
 वाक्यांग सूची 424.5  
 साध्य 518 16  
**विधेयक**  
*विधेयक 878.23 ⇨*  
**विधेय: विस्तार**  
 वाक्यांग सूची 424.5  
**विधेयात्मा**  
 शिव 767.1  
**विध्वंस**  
 तोड़फोड़ 539.4  
 नाश 531.1  
**विध्वंसक**  
 डैस्ट्रॉयर 1072 46  
 नाशक 531.3  
 विध्वंसक शस्त्र 922.6

**विध्वंसकता**  
 नाशकता 531.2  
**विध्वंसक शस्त्र**  
*विध्वंसक शस्त्र 922.6 ⇨*  
**विध्वंसन**  
 भजन 539.1  
**विध्वंसात्मकता**  
 नाशकता 531.2  
**विध्वंसी**  
 तोड़फोड़ कर्ता 539.19  
 नाशक 531.8  
**विध्वस्त**  
 नष्ट 531 7  
**विध्वस्त करना**  
 नष्ट करना 531.5  
**विध्वस्त होना**  
 नष्ट होना 531.4  
**विधुर**  
 वे 316 15  
**विनत**  
 अवनमित 1025.8  
 विनम्र 733.19  
**विनत [विनता]**  
 कुबड़ा [कुबड़ी] 153.23  
**विनता**  
 राक्षस स्त्री सूची 784 23  
*विनता 787.20 ⇨*  
 वैनतेय: माता 777 13  
**विनता संतान**  
 वैनतेय 777.11  
**विनता चुत**  
 अरुण 777.14  
**विनती**  
 नमन 1060.4  
 पूजा 751.1  
 प्रार्थना 350.4  
 मनुहार 374.6  
**विनतोदर [विनतोदरी]**  
 कुबड़ा [कुबड़ी] 153 23  
**विनद्ध**  
 जुता [जुती] 1079.21  
**विनमन**  
 अवनमन 1025 3  
 नमन 1060.4  
**विनमित**  
 अवनमित 1025 8  
**विनम्य**  
 नम्य 1050.32  
 नम्य 545.33  
**विनम्यता**  
 नम्यता 1050 16  
**विनम्र**  
 करबद्ध 733.20  
 दम्य 518.23  
 नम्र व्यवहारी 830.8  
*विनम्र 733.19 ⇨*  
**विनम्रत:**  
*विनम्रत: 733.23 ⇨*

**विनम्रता**  
 दम्यता 518.11  
 नम्र व्यवहार 830.3  
*विनम्रता 733.8 ⇨*  
**विनम्र निवेदन**  
*विनम्र निवेदन 350.2 ⇨*  
**विनम्र सेवक**  
*विनम्र सेवक 651.3 ⇨*  
**विनय**  
 त्रिपिटक भाग सूची 740 4  
 नमन 1060.4  
 नम्र व्यवहार 830 3  
 प्रार्थना 350 4  
 मनुहार 374 6  
 विनम्रता 733.8  
**विनयज्ञ**  
 नैतिकता ज्ञानी 815.6  
**विनयन**  
 अपनयन 1053 3  
 आनयन 1053 1  
 तुष्टीकरण 374.7  
 पहुँचाई 1053 5  
 संचालन 655 1  
**विनयपूर्ण**  
 करबद्ध 733 20  
 विनम्र 733 19  
**विनयपूर्णता**  
 विनम्रता 733.8  
**विनयशीलता**  
 करबद्धता 733 9  
**विनयी**  
 नम्र व्यवहारी 830.8  
 प्रार्थी 350.18  
 विनम्र 733.19  
**विनयना**  
 अवनमित होना 1025.6  
**विनयाना**  
 नष्ट होना 531.4  
**विनयाना**  
 नष्ट करना 531 5  
**विनम्बर**  
 नम्बर 38.7  
**विनम्बरता**  
 नम्बरता 38 2  
**विनष्ट**  
 डहा [डही] 539.17  
 नष्ट 531.7  
**विनसना**  
 नष्ट होना 531.4  
**विनम्भ**  
 अनाथ 719.5  
 पिताहीन 719.6  
**विनम्भता**  
 अनाथता 719.1  
**विनाहित**  
 प्रतिव्यनित 294.23  
 वादित 461.105



विनायी  
ध्वनिकारी 294.22  
विनायक  
अपनायक 1053.14  
गुरु 323 1  
धर्माचार्य 790.2  
नेता 346.2  
मार्ग प्रदर्शक 1098 4  
बाहक :061 20  
शिव 767 1  
विनायक चतुर्थी  
गणेश चतुर्थी 57 5  
विनायिका  
ऋद्धि 774 15  
गणेश पत्नी 773 25  
सिद्धि (गणेश पत्नी) 774 98  
विनाश  
नाश 531.1  
प्रलय 530 1  
विनाशक  
मंत्र नाशक 758 9  
विध्यसकः शस्त्र 922 6  
विनाशकता  
नाशकता 531 2  
विनाशना  
नष्ट करना 531.5  
विनाशवान  
भजनशील 539 14  
विनाशहीन  
अनश्वर 37 9  
विनाशहीनता  
अनश्वरता 37 3  
विनाशी  
नश्वर 58 7  
नाशक 531.8  
प्रलयकर 530.8  
विनाह  
कूप दहकन 19 7  
विनिधा  
परिगर्हा 870 4  
विनिकष  
कसीटीकार 566.8  
विनिकषण  
कसीटी कर्म 566.7  
सान धराई 564 7  
विनिगमन  
विनिगमन 325.14 ⇨  
विनिग्रहण  
वशाधीन 901.2  
विनिग्रही  
दमन कर्ता 911.15  
विनिष्ण  
गुणित 955.23  
विनिधान  
औषध निर्देशन 171.9  
विनिद्ध  
निद्राहीन 265.9

विनिद्रा  
निद्राहीनता 265.4  
विनिधात  
अन्य छोर 1000 4  
विनिधातित  
धराशायी 1027 22  
विनिमय  
विनिमय 636 3 ⇨  
विनिमय करना  
विनिमय करना 636.6 ⇨  
विनिमय कर्ता  
विनिमय कर्ता 636 8 ⇨  
विनिमय कृत  
विनिमीत 636 7  
विनिमय व्यापार  
विनिमय व्यापार 657.6 ⇨  
विनिमीत  
विनिमीत 636.7 ⇨  
विनिमेता  
विनिमय कर्ता 636 8  
विनिमेष  
निमिष 50 13  
विनियत  
ससंख्य 942 22  
विनियतन  
निर्धारण 328 6  
विनियम  
केनन 739.9  
नियत्रण 899 10  
शर्त 339 11  
संयम 808 8  
विनियमन  
दमन 911.4  
नियंत्रण कर्म 899 11  
वशाधीन 901 2  
व्यवस्थापना 893 7  
शासन कर्म 890.3  
विनियमित  
नियंत्रित 899 24  
नियमित 71 10  
विनियमित करना  
नियंत्रित करना 899.20  
विनियामक  
नियंत्रक 899.12  
विधायक 878 22  
विनियोग  
दायित्व 895.1  
विनियोजक  
आयोजक 655.19  
प्रवृत् कर्ता 502 11  
विनियोजन  
आयोजन 655.3  
प्रवर्तन 693.3  
संस्थापना 693.1  
विनियोजना  
योजना 520.1  
विनियोजित  
आयोजित 655.18

योजित 520.17  
विनियोज्य  
विनियोज्य 438.7 ⇨  
विनियोज्य होना  
विनियोज्य होना 438.4 ⇨  
विनिर्घोष  
घोर ध्वनि 294 6  
विनिर्जन  
अनावासित 617 13  
एकात मार्ग 1063 18  
विनिर्णायक  
समाधान कर्ता 877 25  
विनिर्दग्ध  
दग्ध 108 13  
विनिर्दिष्ट  
मात्रा मे नियत 946 17  
विनिर्देशन  
औषध निर्देशन 171 9  
विनिर्देशित  
निर्देशित 347 18  
विनिर्मल  
परिपूर्ण 313 14  
विनिर्माण  
रचना कर्म 527 1  
विनिर्मित  
रचित 527 12  
विनिर्मिति  
कलाकृति 397 20  
भवन 602 7  
रचना विन्यास 527 8  
विनिर्विष्ट  
स्थित 1020 8  
विनिर्वृत्ति  
निवृत्ति 503 1  
विनिवेश  
प्रवेश 1094 1  
विनिवेशन  
आवासन 618 1  
विनिवेशित  
नियेशित (पूँजी) 628 29  
विनिश्चय  
समाधान 334 6  
विनिषिद्ध  
विनिषिद्ध 880.14 ⇨  
विनिषिद्ध करना  
विनिषिद्ध करना 880.9 ⇨  
विनिषिद्ध वाणिज्य  
अवैध व्यापार 865 6  
विनिषेध  
विनिषेध 880.5 ⇨  
विनिष्ठासन  
कार्यान्वयन 505.5  
विनिष्ठाघता  
साध्यता 518.4  
विनिहत  
आहत 168.6  
मारा [मारी] 251.23

विनिहित  
सिपुर्द 638 18  
विनीत  
करबद्ध 733.20  
नतमस्तक 733.21  
विनम्र 733 19  
विनीतक  
पालकी बाहक 1082 21  
विनीतता  
विनम्रतः 733 23  
विनीतता  
विनम्रता 733.8  
शिष्टता 733 7  
विनेय  
शिष्य 323 24  
विनोद  
क्रीडा 469 4  
मनोरंजन 469 1  
विनोद 385.1 ⇨  
विनोदक  
विनोदी 385.13  
विनोद करना  
विनोद करना 385.9 ⇨  
विनोदपूर्ण  
क्रीडापूर्ण 469 15  
विनोदपूर्वक  
क्रीडापूर्वक 469.17  
विनोदपूर्वक 385 15 ⇨  
विनोदप्रिय (दे.)  
घघल 860 24  
विनोदप्रियता  
घघलता 860 8  
विनोद प्रेम 385.2  
विनोद प्रेम  
विनोद प्रेम 385.2 ⇨  
विनोदित  
मनोरंजित 469.12  
विनोदिता  
विनोद प्रेम 385.2  
विनोदी  
विनोदी 385.13 ⇨  
विनोदी [विनोदिनी]  
क्रीडाप्रिय 469 16  
विनोदी 385 13  
विनोदोक्ति  
विनोदोक्ति 385.3 ⇨  
विन्न  
विवाहित 799.64  
विना  
विवाहिता 799.65  
विन्ध्यसन  
आधारण 1019.5  
प्रवर्तन 693.3  
स्थितन 1020.3  
विन्ध्यस्त  
क्रमिक 991.21  
विन्ध्यस्त 527.22 ⇨  
व्यवस्थित 893.13

## विन्यस्त केश

### विन्यस्त केश

संवृत केश 223 5

### विन्यस्तता

क्रामिकता 991 2

व्यवस्थितता 893 6

### विन्यास

आकार रूप 967 5

क्रम 991 1

रचना विन्यास 527 8

व्यवस्थापना 893 7

### विन्यास करना

रचित करना 527 9

### विन्यासन

सस्थापना 693 1

### विपक्षिन्त्रम

सुपक्ष 195 80

### विपक्ष

सुपक्ष 195 80

### विपक्ष

प्रतिवादी 875 12

विपरीत 310 7

विरोध पक्ष 886 3

### विपक्षधर

विपक्षधर 886 6 ⇌

### विपक्षधरता

विपक्षधरता 886 1 ⇌

### विपक्ष नेता

विपक्ष नेता 889.11 ⇌

### विपक्ष भाव

प्रतिद्विदिता 707 1

### विपक्षहीनता

विरोधहीनता 887 4

### विपक्षी

प्रतिवादी 875 12

प्रतिवादी 324 29

विपक्षधर 886 6

शत्रु 706 2

### विपक्षी नेता

विपक्ष नेता 889 11

### विपक्षीय

विपक्षधर 886 6

### विपक्षीयता

विपक्षधरता 886.1

### विपण

विक्रय 861.1

### विपणक

विपणक 658.2 ⇌

### विपणन

विपणन 658.1 ⇌

### विपणन करना

विपणन करना 658.10 ⇌

### विपणित

विपणित 658.13 ⇌

### विपण्य

विक्रय 861.22

### विपत्त

कष्ट 392 1

### विपत्ति

कष्ट 392 1

दुर्घटना 168 2

यंत्रणा 391 13

सकट 909 1

### विपत्तिकर

सकटप्रद 909 20

### विपत्ति सागर

महा सकट 909 2

### विपथ

अचलनीय मार्ग 1063 3

### विपथगामिता

दुर्यधरिता 811 1

मार्गव्युति 1099 2

### विपथगामी

मार्गव्युत 1099 8

### विपथधारिता

मार्गव्युति 1099 2

### विपथधारी

मार्गव्युत 1099 8

### विपदा

कष्ट 392 1

दुर्घटना 168 2

सकट 909 1

### विपदा काल

सकट काल 909 7

### विपदाग्रस्त

सकटग्रस्त 909 19

### विपदात्मक

संकटात्मक 909 21

### विपदात्मक घटना

भौतिक सकट 909 3

### विपदा सागर

महा सकट 909 2

### विपदाहोन

सुरक्षित 908 27

### विपदाहीनता

सुरक्षा 908 4

### विपन्न

कष्टग्रस्त 392 21

दुर्दशाग्रस्त 627 22

रोगग्रस्त 162 5

सकटग्रस्त 909 19

### विपन्नता

दुर्दशा 627 8

### विपारेष्ठिति

सीमा माप 958.15

### विपरिवर्तन

प्रत्यावाहन 1055.4

### विपरिवर्तित

प्रत्यावाहित 1055.15

### विपरीत

अधोमुख 1023.14

असंगत 439 5

असमकक्ष 851.6

तुलना में 309.23

नियम प्रतिकूल 879.19

प्रतिप्रवाह 1096.17

विपरीत 310.7 ⇌

विपरीततः 310 10

विरोधी 886 7

सामजस्वहीन 701.9

### विपरीत कर्षण

विकर्षण 1050 11

### विपरीत क्रम

अवरोह क्रम 991.4

### विपरीत क्रमिक

अवरोह क्रमिक 991.23

### विपरीत गणना

विपरीत गणना 950.2 ⇌

### विपरीत जोड़ी

विपरीत जोड़ी 687 4 ⇌

### विपरीत ज्ञान

विपरीत ज्ञान 306.4 ⇌

### विपरीततः

अवरोहत 991.30

विपरीततः 310.10 ⇌

### विपरीतता

अधोमुखता 1023 4

विपरीतता 310 2 ⇌

विपर्यायता 426 25

### विपरीतताः उपमान सूची

विपरीतता उपमान सूची 310.13 ⇌

### विपरीत लक्षणा

व्याज प्रशङ्गा 841 3

### विपरीत समुदाय

विपरीत जोड़ी 687.4

### विपरीत हित

हित संघर्ष 905 3

### विपरीत होना

विपरीत होना 310.5 ⇌

### विपरीतार्थक

विपर्यायवाची 426 40

### विपरीतार्थकता

विपर्यायता 426 25

### विपरीतार्थी

विपर्यायवाची 426.40

### विपरीतोक्ति

विपरीतोक्ति 434.10 ⇌

### विपर्यय

क्रम विस्थापना 992 2

विपरीतता 310 2

समाप्ति 942.6

### विपर्यय बोध

विपर्यायता 428.25

### विपर्यसक

क्रम विस्थापक 992.6

### विपर्यस्त

परिवर्तित 532.16

### विपर्याय

विपर्यायवाची 426 40

### विपर्यायता

विपर्यायता 426.25 ⇌

### विपर्यायवाची

विपर्यायवाची 426.40 ⇌

### विपर्यास

क्रमहीनता 992.1

विपरीतता 310.2

विरुद्धता 886.2

### विपलारा

पल्लवहीन 115 14

### विपर्ययना

यथार्थ ज्ञान 761.8

### विपर्ययी

बोधिसत्त्व सूची 793.16

### विपाक

पक्व 195 41

पूर्व कर्मफल 260 9

### विपाती

संगलक तत्त्व 565 12

श्रावक 1032.28

### विपादिका

बिवाई 165 6

### विपाशान

उन्मोचन 1015.1

### विपिता

सौतेला पिता 717.10

### विपिन

वन 12 1

### विपिनधर

वन्य पशु 127 2

### विपिन विहारी

कृष्ण 771 1

### विपिनीका

बनमानुस 127 91

### विपुंजन

विकिरण 288 5

### विपुंजन करना

विकीर्ण करना 288 9

### विपुंजित

विकीर्ण 288 11

### विपुर

खानाबदोश 1090.44

### विपुल

अत्यधिक 944 7

बृहत् 979.15

विस्तीर्ण 981 10

### विपुलता

अत्यधिकता 944.2

विस्तीर्णता 981.1

समुद्रि 826.1

### विपुला

बहुला 774.58

### विपुष्ट

असंपुष्ट 338.37

### विपुष्य

पुष्पहीन 115.18

### विप्र

शास्त्रण 731.13

### विप्र करण

विष्णुः यज्ञ विष्णु 788.3

### विप्रविधि

दानव 783.11

दानव सूची 783.13  
 विप्रथिति 783.15 ⇐  
 विप्रथिति पुत्र  
 राहु 6.4  
 विप्रतिकृत  
 निरस्त 338.39  
 विप्रत्यय  
 भ्रंदाहीनता 341.2  
 विप्र राम  
 परशुराम अवतार 769.28  
 विप्रलंभ  
 छल 827.7  
 प्रिय वियोग 388.3  
 हतारा 376.2  
 विप्रलंभ शृंगार  
 वियोग शृंगार 455.21  
 विप्रलंभी  
 छली 827.24  
 विप्रलब्ध  
 वियोगी 388.8  
 विप्रलब्धा  
 वियोगिनी 388.9  
 विप्रलाप  
 बकवास 428.7  
 विप्रलापी  
 बकवासी 428.26  
 विप्रस्यारित  
 व्यापक 981.12  
 विप्रितक  
 कम विस्थापक 992.6  
 विप्लव  
 क्रांति 903.5  
 जल प्रलय 530.2  
 नाश 531.1  
 नियमोत्लंघन 861.11  
 प्रवाह 1041.1  
 महाक्रांति 903.10  
 विरुद्धता 886.2  
 विप्लवकारी क्रांति  
 महाक्रांति 903.10  
 विप्लवी  
 क्रांति कर्ता 903.20  
 विप्लाव  
 बाह 22.1  
 विस्फोट 544.8  
 विप्लावित  
 प्रवाहित 1041.7  
 विप्लुति  
 जल प्रलय 530.2  
 विकल  
 अनुपयोगी 525.8  
 अफलित 118.17  
 असफल 513.4  
 प्रभावहीन 511.18  
 फलहीन 116.12  
 हतारा 376.6  
 विकलता  
 असफलता 513.1

विबोध  
 अनुबध 339.1  
 विबुध  
 चंद्रमा 8.2  
 देवता 772.1  
 बुद्धिमान व्यक्ति 301.6  
 विबुध प्रिया  
 देवी 774.1  
 विबुध वन  
 देवता उद्यान 772.12  
 विबुधाचार्य  
 बृहस्पति 789.22  
 विबुधान  
 धर्माचार्य 790.2  
 विबुधारि  
 असुर 783.6  
 विबुधेश्वर  
 इंद्र 773.5  
 विबोध  
 अनुभूति 263.1  
 चेतना लाभ 263.6  
 जागरण 265.2  
 विबोधन  
 उदबोधन 499.3  
 विबोधित  
 संबोधित 430.25  
 विबोधांक  
 गर्वोक्ति 842.2  
 विबोधांकी  
 गर्वोक्ति कर्ता 842.13  
 विभंग  
 खिंचन 392.9  
 विभंगि  
 नमन 1060.4  
 विभक्त  
 विभाजित 699.16  
 विलग्न 1011.5  
 विभक्त मनस्कता  
 मनोभाजन 353.12  
 विभक्ता  
 विभाजक 699.18  
 विभक्ति  
 संभागीकरण 937.2  
 विभक्तियुक्त शब्द रूप  
 रूपांतरित शब्द 423.10  
 विभव  
 प्रभाव 511.1  
 प्रलय 530.1  
 विकास 534.4  
 सर्वव्यापक 981.13  
 विभवता  
 सर्वव्यापकता 981.4  
 विभवशाली  
 वैभवशाली 226.15  
 विभ्रंति  
 कोटि 936.1  
 विविध 310.8

विभा  
 दीप्ति 287.16  
 प्रकाश किरण 288.1  
 सुंदरता 157.1  
 विभाकर  
 सूर्य 8.1  
 विभाग  
 अध्याय 447.2  
 क्षेत्र 34.1  
 खड 938.1  
 नगर खड 619.5  
 पाठ्य विषय 322.4  
 विभाग 937.3 ⇐  
 शिकालय विभाग 321.15  
 सभाग 937.1  
 विभागांक  
 विभागाध्यक्ष 652.18  
 विभाजक 699.18  
 संभागीकरण कर्ता 937.11  
 विभाग बंदी  
 खानाबंदी 902.17  
 विभाग रेखा  
 विभाजन रेखा 699.6  
 सीमा रेखा 1001.17  
 विभाग विषयक  
 विभागीय 937.13  
 विभागाध्यक्ष  
 विभागाध्यक्ष 323.20 ⇐  
 विभागाध्यक्ष 652.18 ⇐  
 विभागीय  
 विभागीय 937.13 ⇐  
 विभाजक  
 विभाजक 699.18 ⇐  
 विभाजक संख्या 955.15  
 विभाजन रेखा 699.6  
 सङ्क विभाजक 1064.3  
 विभाजक संख्या  
 विभाजक संख्या 955.15 ⇐  
 विभाजक सीमा  
 विभाजन रेखा 968.12  
 विभाजन  
 उत्तराधिकार विभाजन 623.6  
 देश विभाजन 699.5  
 परिवार विभाजन 699.4  
 भाग कर्म 955.13  
 विदीर्णन 544.3  
 विभाजन 699.3 ⇐  
 संभागीकरण 937.2  
 विभाजन करना  
 विभाजन करना 699.12 ⇐  
 विभाजन दस्तावेज  
 विभाजन दस्तावेज 623.7 ⇐  
 विभाजन रेखा  
 विभाजन रेखा 699.6 ⇐  
 विभाजन रेखा 968.12 ⇐  
 विभाजन सीमा  
 विभाजन सीमा 1001.7 ⇐

विभाजनहीन संख्या  
 अभाज्य संख्या 949.13  
 विभाजनीय  
 विभाज्य 699.17  
 विभाजयिता  
 विभाजक 699.18  
 विभाजित  
 ध्रुवीकृत 885.4  
 भाग कृत 955.24  
 मतभेदपूर्ण 338.36  
 विभाजित 699.16 ⇐  
 विलग्न 1011.5  
 विभाजित करना  
 भाग करना 955.22  
 विभाजन करना 699.12  
 विभाजित पंजाब  
 पंजाब 28.46  
 विभाज्य  
 विभाज्य 699.17 ⇐  
 विभाज्य संख्या 955.18  
 विभाज्य संख्या  
 विभाज्य संख्या 955.18 ⇐  
 विभाति  
 अंतरघंद्रता 285.34  
 विभाव  
 विभाव 358.7 ⇐  
 विभावक  
 अभिव्यक्ति कर्ता 428.18  
 विभावन  
 कल्पना 308.1  
 विचारण 330.5  
 साधारणीकरण 352.14  
 साधारणीकरण 399.16  
 विभावरी  
 कुटनी 807.11  
 तारो मरी रात 48.2  
 रात 48.1  
 देश्या 807.5  
 विभावरी मुख  
 सायंकाल 47.13  
 विभावरीश  
 चंद्रमा 8.2  
 विभावसु  
 अग्नि 106.1  
 असुर सूची 783.8  
 गंधर्व सूची 778.5  
 चंद्रमा 8.2  
 दानव सूची 783.13  
 सूर्य 8.1  
 विभावित  
 प्राण (बोध) 301.28  
 विचारित 330.19  
 विभाव्य  
 परिभाष्य 317.19  
 विभाषा  
 अपवाद अनपवाद 879.11  
 प्राकृत सूची 421.9  
 स्वयं चयन 1009.3

## विभासित

**विभासित**  
आलोकित 285.45  
**विभिन्न**  
विधिघ 310 8  
**विभिन्नता**  
असादृश्य 310 1  
विधिघता 310.3  
**विभीषण**  
कृषि रक्षक पुतला 550 3  
भयानक 395.25  
राक्षस सूची 784 4  
रावण. भाई सूची 784 15  
विकराल 154 23  
*विभीषण 784.21 ⇨*  
**विभीषणः पत्नी**  
सरमा 784 28  
**विभीषिका**  
भयानक दृश्य 312 9  
भयानक वस्तु 395 8  
**विभु**  
ईश्वर 764.1  
कुबेर 779 4  
ब्रह्मा 766 1  
विष्णु 768.1  
वैभवंशाली 226 15  
शक्तिशाली 487 20  
शिव 767 1  
सक्षम 487 25  
सर्वव्यापक 981 13  
सूर्य 8 1  
**विभूता**  
वैभव 226.5  
व्यापकता 981 3  
सर्वव्यापकता 981 4  
**विभूत**  
उत्पन्न 546.9  
महान 839 8  
**विभूति**  
अत्यधिकता 944 2  
उच्च पदाधिकार 652 5  
प्रतिष्ठा 849 2  
भभूत 106 17  
महत्त्व 852 1  
महानता 839 1  
वैभव 226 5  
समुद्दि 626 1  
**विभूतिमान**  
भभूत धारी 106 25  
शक्तिशाली 487.20  
**विभूषण**  
अलकरण 227 1  
**विभूषा**  
शोभा 226.1  
**विभूषित**  
अलंकृत 227 4  
सुवैशित 589 27  
**विभूषणु**  
वैभवशाली 226 15

1548

सर्वव्यापक 981 13  
**विभेदा**  
कर्तक 543 16  
**विभेद**  
असादृश्य 310 1  
असामान्यता 312.1  
कोटि 936 1  
मतभेद 338.4  
वियोग 388 1  
सभाग 937.1  
**विभेदक**  
विश्लेषक 427 33  
**विभेदकारी**  
एकता भंग कर्ता 699 15  
**विभेदन**  
भंजन 539 1  
विच्छेदन 543 11  
विभाजन 699.3  
संभागीकरण 937 2  
**विभेदी**  
एकता भंग कर्ता 699 15  
विभाजक 699 18  
**विभोर**  
तल्लीन 331 14  
ब्रह्मलीन 755 10  
भाव विभोर 358 28  
**विभोरता**  
तल्लीनता 331.6  
समाधिस्थता 755 4  
**विभ्रंश**  
कगार 1000 8  
**विभ्रम**  
आश्चर्यितता 379 2  
एक चक्रावृत्ति 1033 13  
परिक्रमा 1033 3  
भ्रम 342 1  
सदेह 341 3  
सादृश्य आभास 309 4  
स्मृति विभ्रम 357 2  
**विभ्रंत**  
आश्चर्यित 379 8  
भ्रमित 342 10  
मार्गघ्युत 1099.8  
**विभ्रंति**  
अवास्तविकता 821.9  
अस्थिरचित्तता 355 3  
गलत क्रहमी 341.4  
भ्रम 342 1  
**विभ्रंजन**  
अलकरण 227.1  
अलंकार प्रदान 854.12  
**विभ्रंथन**  
विचारण 330.5  
**विभ्रंथन**  
*विभ्रंथन 1045.5 ⇨*  
**विभ्रंति**  
नापसंदगी 401.2

**विमध्य**  
केंद्रहीन 971.23  
**विमनस्क**  
उदास 380 14  
उद्दिग्ध 377.13  
खिन्न 380 10  
**विमना**  
खिन्न 380 10  
**विमर्द**  
सर्व ग्रहण 6 3  
**विमर्दक**  
ग्रहण 6.1  
मर्दन कर्ता 911.11  
**विमर्दन**  
उत्पीडन 391.10  
घुटाई 540 3  
मर्दन 911 1  
**विमर्दित**  
मर्दित 911 10  
**विमर्दी**  
मर्दन कर्ता 911 11  
**विमर्श**  
परामर्श 332 1  
परीक्षा 322 11  
विचारण 330.5  
*विमर्श 330.11 ⇨*  
विवेचना 427 13  
**विमर्शक**  
विचारक 330.6  
**विमर्श करणा**  
*विमर्श करणा 330.16 ⇨*  
**विमर्शवाता**  
परामर्शक 332.14  
**विमर्शन**  
तर्कण 325 9  
*विमर्शन 330 12 ⇨*  
**विमर्शित**  
विचारित 330.19  
*विमर्शित 330.28 ⇨*  
**विमर्शिततः**  
विचारितत 330 29  
**विमर्शी**  
परामर्शक 332 14  
समीक्षक 398.5  
**विमर्श्य**  
विचारणीय 330.20  
**विमर्ष**  
उद्देग 377 3  
**विमल**  
उज्ज्वल 218.37  
परिपूर्ण 313.14  
विरुद्ध 219.7  
श्वेत 289.65  
स्वच्छ 218.33  
**विमलता**  
स्वच्छता 218.1  
**विमल नाथ**  
तीर्थंकर सूची 792.2

**विमला**  
*विमला 774.86 ⇨*  
शिकाकाई 220 28  
सरस्वती 775.8  
**विमलात्मना**  
सदाशय 817.10  
**विमलाद्रि**  
गिरनार 17.3  
**विमलाता**  
सौतेली माता 717.11  
**विमातुज**  
सौतेला भाई 723.22  
**विमातुज [विमातुजा]**  
सौतेला [सौतेली] 717 14  
**विमान**  
अरधी 254.4  
घोडा 127.35  
देवता: विमान 772.14  
देव मंदिर 745.30  
प्रशस्ति स्तंभ 255.15  
*विमान 1074 10 ⇨*  
सतखंडा भवन 602.24  
समुद्र पोत 1072 40  
**विमान: अनुवात**  
अनुवात 867.9  
**विमान अपहरण**  
*विमान अपहरण 862 3 ⇨*  
**विमान अभियंता**  
*विमान अभियंता 1081 9 ⇨*  
**विमान अवतरण**  
विमान अवरोहण 1081 25  
**विमान अवपात**  
*विमान अवपात 1081.28 ⇨*  
**विमान अवरोहण**  
*विमान अवरोहण 1081.25 ⇨*  
**विमान आरोहण**  
नभोत्तरण 1081 18  
**विमान उडान**  
*विमान उडान 1081.11 ⇨*  
**विमान उडाना**  
विमान चलाना 1081 44  
**विमान कंपनी**  
*विमान कंपनी 1068.10 ⇨*  
**विमान कर्मचारी**  
विमान कर्मी 1081.4  
**विमान कर्मी**  
*विमान कर्मी 1081.4 ⇨*  
**विमानकीय**  
*विमानकीय 1081.50 ⇨*  
**विमान गति**  
*विमान गति 1081.31 ⇨*  
**विमान घर**  
हंगार 1089.32  
**विमान घंघु**  
विमानघण्ट 1074.21  
**विमानघर**  
विमान यात्री 1087.22

विमान चलाना	विमान विस्तारी	संचालित (शास्त्र) 930.18	संकट मोचन 910.1
विमान चलाना 1081.44 ⇨	विमान यंत्र कर्मी 1081.8	विमुक्ति	विमोहित
विमानचारी	विमान यंत्र कर्मी	उन्मुक्ति 1015.3	उद्घाटित 693.11
विमान यात्री 1087.22	विमान यंत्र कर्मी 1081.8 ⇨	विमुख	उन्मुक्त 1015.9
विमान चालक	विमान यात्रा	उपेक्षक 185.8	ग्रंथि युक्त 574.12
विमान चालक 1081.2 ⇨	विमान यात्रा 1087.21 ⇨	निवृत्त 503.9	विमोह
विमान चलान	विमान यात्री	विमुख 1023.10 ⇨	आसक्ति 365.1
विमानन 1081.1	विमान यात्री 1087.22 ⇨	विमुखता	भ्रम 342.1
विमान धल कर्मी	विमान राज	विमुखतः 1023.16 ⇨	ममता 721.2
विमान धल कर्मी 1081.7 ⇨	विमान चालक 1081.2	विमुखता	विषय वासना रूपी अज्ञान 761.2
विमान धेला	विमान वाही	विमुखता 1023.2 ⇨	विमोहक
एअर बेग 444.12	एयरक्राफ्ट कैरियर 1072.44	विमुख होना	प्रलोभक 359.32
विमान विद्या नियंता	विमान विद्या	विमुख होना 1023.6 ⇨	सम्बोधनपूर्ण 367.7
विमान विद्या नियंता 1074.25 ⇨	विमान विद्या 1081.29 ⇨	विमुग्ध	विमोहन
विमान वीर पट्टी	विमान वीथी	आश्चर्यित 379.8	आलोचन 359.8
विमान वीर पट्टी 1083.32 ⇨	विमान वीर पट्टी 1083.32	भ्रमित 342.10	सम्बोधन 367.2
विमान धावनी (प्र)	विमान वीर	सम्बोधित 367.6	विमोहित
विमान वीर पट्टी 1083.32	हंगार 1069.32	विमुग्धन	आश्चर्यित 379.8
विमानन	विमान संचालन	आलुभन 359.7	भ्रमित 342.10
विमानन 1081.1 ⇨	विमानन 1081.1	विमुह	लुब्ध 359.30
विमानन आकाश	विमान सेना	चेतनाहीन 264.20	वशीकृत 758.41
विमानन आकाश 1081.35 ⇨	नम सेना 932.17	देव योनि सूची 772.37	सम्बोधित 367.6
विमानन विषयक	विमान सेवा	भ्रमित 342.10	विमोहिनी
विमानकीय 1081.50	विमान सेवा 1068.9 ⇨	भ्रष्टधी 302.10	खलनायिका 467.13
विमानना	विमानांत	मूर्ख 302.7	वशीकरण 758.22
अपमान 855.1	विमान पुच्छ 1074.24	विमुहता	विमोही
विमाननीय	विमानाग्र	मूर्खता 302.1	प्रलोभक 359.32
विमानकीय 1081.50	विमानाग्र 1074.21 ⇨	विमुहधी	विद्य
विमान पंख	विमानिकी	भ्रष्टधी 302.10	दो 948.19
विमान पंख 1074.22 ⇨	विमान विद्या 1081.29	विमुहित	विद्यत
विमान पंखा	विमानिनी	मुर्च्छित 264.23	उतना [उत्तनी] 946.13
विमान पंखा 1074.23 ⇨	विमान परिचारिका 1081.5	विमूर्धज	गतिशील 1042.11
विमान पट्टी	विमानोत्तरण	गंजा 137.30	निर्जन स्थान 617.7
रनवे 1069.20	नभोत्तरण 1081.18	विमूल	वायु मंडल 2.6
विमान पतन	विमार्ग	उ मूलित 548.57	विद्यति
विमान पतन 1069.16 ⇨	अचलनीय मार्ग 1063.3	विमूलन	गतिशीलता 1042.2
विमान पतन संपर्क उड़ान	मार्गध्युत 1099.8	उन्मूलन 548.28	विद्यदगत
ससंपर्क उड़ान 1081.13	विमार्ग गमन	विमुदित	नभ यात्री 1087.20
विमान परिचारिका	दुश्चरित्रता 811.1	मर्दित 911.10	विद्याम
विमान परिचारिका 1081.5 ⇨	विमार्गण	विमृश्य	विराम 1048.1
विमान परिवहन	खोज 336.4	विचारणीय 330.20	विद्युक्त
विमान सेवा 1068.9	विमार्गता	विमृष्ट	कर्तित 543.14
विमान परसर	मार्गध्युति 1099.2	विचाररत 330.19	रहित 1007.3
विमान परसर 1081.6 ⇨	विमार्गी	विमोक्ष	वियोगित 388.7
विमान पात	दुश्चरित्र 811.5	उन्मुक्ति 1015.3	विलग्न 1011.5
विमान अवपात 1081.28	व्यभिचारी 806.10	विमोघ	विद्युक्त करना
विमान पुच्छ	विमार्जक	लक्ष्यानुगामी 931.22	विलग्न करना 1011.4
विमान पुच्छ 1074.24 ⇨	मार्जक 218.39	विमोघक	विद्युक्ततः
विमान प्रणोदन	विमार्जन	उन्मोघक 1015.10	रहिततः 1007.4
विमान प्रणोदन 1081.30 ⇨	मार्जन 218.8	ग्रंथि मोघक 574.13	विद्युक्तता
विमान बटमार	विभिन्न	विमोचन	रहितता 1007.1
विमान बटमार 864.35 ⇨	खोटा [खोटी] 98.13	उद्घाटन 693.2	विलम्बिता 1011.2
विमान भंडारी	सम्मिश्रित 1008.26	उन्मोघन 1015.1	विद्युक्त होना
विमान परसर 1081.6	विभिन्न	ग्रंथि मोघन 574.3	विलग्न होना 1011.3
विमान भाग	सम्मिश्रण 1008.12	द्रिगरन 1046.11	विद्युक्ता
विमान भाग 1074.19 ⇨	विमुक्त	पुस्तक विमोघन 420.5	वियोगिनी 388.9
विमान मार्ग	उन्मुक्त 1015.9	प्रक्षेपण 1052.2	वियुजन
विमान मार्ग 1066.2 ⇨	नियंत्रणहीन 900.8	शिव 767.1	विद्यतन 544.1

## वियुजित

**वियुजित**  
विघटित 544.17

**वियुत**  
कर्तित 543.14  
रहित 1007.3

**वियुततः**  
रहिततः 1007.4

**वियुति**  
वियोग 388.1

**वियुध**  
समूह निर्वासित 870.29

**वियुधन**  
समूह निर्वासन 870.12

**वियुधित**  
समूह निर्वासित 870.29

**वियोग**  
रहितता 1007.1  
वियोग 388.1 ⇌

**वियोग अंत**  
प्रिय संयोग 389.3

**वियोगक**  
वियोग कर्ता 388.11

**वियोग करणा**  
वियोग करणा 388.6 ⇌

**वियोग कर्ता**  
वियोग कर्ता 388.11 ⇌

**वियोग कर्म**  
वियोग कर्म 388.2 ⇌

**वियोग दुःख**  
वियोग दुःख 388.4 ⇌

**वियोग शृंगार**  
प्रिय वियोग 388.3  
वियोग शृंगार 455.21 ⇌

**वियोग होना**  
वियोग होना 388.5 ⇌

**वियोगातुर**  
वियोगातुर 388.10 ⇌

**वियोगात्मा**  
शिव 767.1

**वियोगानल**  
वियोग दुःख 388.4

**वियोगित**  
वियोगित 388.7 ⇌

**वियोगिनी**  
प्रोषितपतिका नायिका 456.11  
वियोगिनी 388.9 ⇌

**वियोगी**  
चकवा 126.31  
वियोगी 388.8 ⇌

**वियोगी [वियोगिनी]**  
प्रतीक्षक 1057.10

**वियोगी (दे.)**  
प्रतीक्षारत 1057.9

**वियोगी होना**  
वियोग होना 388.5

**वियोजक**  
घटानः छोटी संख्या 954.8  
वियोग कर्ता 388.11

विलग्नक 1011.6  
विश्लेषक 427.33

**वियोजन**  
घटान कर्म 954.6  
वियोग कर्म 388.2  
विलग्नन 1011.1

**वियोजित**  
कर्तित 543.14  
घटाया [घटाई] 954.14  
रहित 1007.3  
विलग्न 1011.5

**वियोज्य**  
घटानः बड़ी संख्या 954.7

**विरंथि**  
ईश्वर 764.1  
प्रारब्ध विधाता 260.7  
ब्रह्मा 766.1  
विष्णु 768.1

**विरंजक ब्रह्म**  
विरंज्य 290.20

**विरंज फूल**  
धान सूची 187.12

**विरंज्य**  
विरंज्य 290.20 ⇌

**विरंजित**  
विरंजित 291.17 ⇌

**विरंजितता**  
विवर्णता 289.23

**विरंजित होना**  
विवर्ण होना 291.10

**विरक्त**  
खिन्न 380.10  
मनोरंजनहीन 469.14  
विरक्त 366.6 ⇌  
शिव 767.1

**विरक्त होना**  
विरक्त होना 366.4 ⇌

**विरक्ति**  
खिन्नता 380.2  
विरक्ति 366.2 ⇌

**विरचना**  
कलाकृति 397.20  
कल्पना से बनाना 308.12  
रचना कर्म 527.1  
रचित करना 527.9  
लेखन करना 448.25

**विरचित**  
रचित 527.12  
लिखित 448.26

**विरचिति**  
रचना विन्यास 527.8

**विरचैता**  
रचैता 527.14  
साहित्य लेखक 448.2  
सृष्टि रचैता 529.5

**विरजस्क**  
विरक्त 366.6

**विरजस्का**  
रज निवृत्ता 130.14

**विरजा**  
आकाश गंगा 1.14  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
दुर्गा 776.7  
दूब घास 11.10  
रज निवृत्ता 130.14  
विष्णु 768.1

**विरत**  
निवृत्त 503.9  
मनोरंजनहीन 469.14  
विरक्त 366.6

**विरतता**  
विमुखता 1023.2

**विरति**  
घृणा 370.2  
निवृत्ति 503.1  
विरक्ति 366.2

**विरथ**  
रथहीन 1082.34

**विरथ्या**  
असमतल मार्ग 1063.10

**विरदैत**  
ख्यात 847.3

**विरमण**  
मनोरंजन कर्म 469.2

**विरमणीय**  
विचरणीय 1085.12  
सुदर 157.7

**विरमता**  
उघाटता 401.4

**विरमना**  
आनंदित होना 382.11  
आमोद यात्रा करना 1085.11  
आवासित करना 618.17  
पर्यटन करना 1090.40  
प्रेम करना 368.13  
विचरना 1085.10  
सम्मोहित होना 367.4

**विरमाना**  
प्रेमानुरक्त करना 368.14  
सम्मोहन करना 367.5

**विरमित**  
वशीकृत 758.41

**विरम्य**  
विचरणीय 1085.12

**विरल**  
अनुपम 312.17  
अप्रगाढ़ 80.8  
अल्प 942.13  
असघन 80.10  
कोई एक 946.21  
दुर्लभ 942.19  
विरल 1005.9 ⇌  
विलक्षण 312.16

**विरल तत्त्व**  
सूक्ष्म मात्रिक तत्त्व 1008.8

**विरलता**  
असघनता 80.3  
विरलता 1005.2 ⇌  
विलक्षणता 312.3

**विरलित**  
विरल 1005.9

**विरव**  
ध्वनिहीन 295.4

**विरस**  
अरोचक 401.10  
अस्वादिष्ठ 275.21  
उबाऊ 401.15  
रस दोष 455.6  
रसहीन 84.18  
स्वादहीन 275.16

**विरसता**  
अरोचकता 401.1  
स्वादहीनता 275.5

**विरह**  
प्रिय वियोग 388.3  
रहितता 1007.1  
वियोग दुःख 388.4  
वियोग शृंगार 455.21

**विरह (दे.)**  
परित्याग 1003.1

**विरह गीत**  
विरह 457.37

**विरह पत्र**  
वियोग दुःख 388.4

**विरहन**  
वियोगिनी 388.9

**विरह बेचना**  
तीर्थ मिलन अधिलाषा 1057.4  
वियोग दुःख 388.4

**विरहाग्नि**  
वियोग दुःख 388.4

**विरहातुर**  
वियोगातुर 388.10

**विरहानल**  
वियोग दुःख 388.4

**विरहिणी**  
प्रोषितपतिका नायिका 456.11

**विरहित**  
रहित 1007.3  
वियोगी 388.8  
विलग्न 1011.5

**विरहितता**  
रहितता 1007.1

**विरहिन**  
वियोगिनी 388.9

**विराग**  
खिन्नता 380.2  
घृणा 370.2  
विरक्त 366.6  
सुकृषिहीनता 401.5

**विराज**  
आलोकित 285.45  
क्षत्रिय 731.19

ख्यात 847.3  
 ब्रह्माः प्रथम संतान 766.8  
 शोभायुक्त 226 11  
 विराज उल्पाद्यक  
 स्वायंभुव मनु 788 6  
 विराजना  
 बैठना 1028 8  
 शोभायुक्त 226 7  
 विराजमान  
 आसीन 1028 10  
 उपस्थित 1021.9  
 शोभायुक्त 226 11  
 विराजित  
 उपस्थित 1021 9  
 दीप्त 287.34  
 विराज्जी  
 स्वयं रानी 882.19  
 विराट  
 अत्यधिक 944 7  
 असीम 1001.34  
 बृहत् 979 15  
 ब्रह्मा 786.1  
 ब्रह्माः प्रथम संतान 766.8  
 विराट पुरुष 764.22  
 शिव 767 1  
 विराटता  
 असीमता 1001.3  
 बृहत्ता 979.1  
 विराट पर्व  
 महाभारत. पर्व सूची 771.23  
 विराट पुरुष  
 विराट पुरुष 764.22 ⇨  
 विराट्  
 प्रतिरोधित 915 10  
 विराधन  
 उत्पीडन 391.10  
 विराम  
 अंत 995.1  
 कार्य समाप्ति 522.1  
 गति रुद्धता 1047.3  
 वाक्यः विराम 425.30  
 विराम 1048.1 ⇨  
 विश्राम काल 494.2  
 समाप्ति 942.6  
 विरामक  
 विराम कर्ता 1048.7  
 विराम करना  
 विराम करना 1048.4 ⇨  
 विराम कर्ता  
 विराम कर्ता 1048.7 ⇨  
 विराम कर्म  
 विरामण 1048.2  
 विराम विह्वल  
 विराम विह्वल 425.31 ⇨  
 विरामण  
 विरामण 1048.2 ⇨  
 विरामतः  
 सविरामतः 1048.8

विराम न होना  
 विराम न होना 1049.6 ⇨  
 विरामपूर्ण  
 विरामयुक्त 1048.5  
 विरामयुक्त  
 विरामयुक्त 1048.5 ⇨  
 विरामशील  
 विरामयुक्त 1048 5  
 विराम होना  
 विराम होना 1048.3 ⇨  
 विरामित  
 विरामित 1048.6 ⇨  
 विराव  
 भनभन 298 5  
 विरावण  
 कोलाहलकारी 294.31  
 धनिकारी 294.22  
 विलाप कर्ता 386 31  
 विरावित  
 वादित 461 105  
 विरावी  
 कोलाहलकारी 294.31  
 घोर धनिक 294 28  
 विरावी [विराविणी]  
 विलाप कर्ता 386.31  
 विराट्टीयकरण  
 विराट्टीयकरण 635 4 ⇨  
 विराट्टीयकृत  
 विराट्टीयकृत 635.20 ⇨  
 विरासत  
 उत्तराधिकार 623 1  
 धरोहर 633.27  
 पितृक संपत्ति 624.7  
 विरासती  
 दायागत 623 27  
 विरसत  
 ध्वनिपूर्ण 294.20  
 विरुध  
 प्रसंसा 841.1  
 विरुधाबली  
 प्रसंसा गीत 841.6  
 मरसिया 452.24  
 वीर काव्य 451.14  
 विरुद्ध  
 असंगत 439.5  
 प्रतिप्रवाह 1096 17  
 विरोधी 886.7  
 विरुद्ध करना  
 पट्टी पकाना 332.13  
 विरुद्धतः  
 विरुद्धतः 886.8 ⇨  
 विरुद्धता  
 प्रतिद्वंद्विता 707.1  
 विपक्षधरता 886.1  
 विपरीतता 310.2  
 विरुद्धता 886.2 ⇨  
 विरुद्ध होना  
 विरोध करना 886.5

विरुद्ध  
 अकुरित 117.18  
 उद्भिद 117.20  
 विरुप  
 अनुपम 312 17  
 कुडील 155 5  
 कुरुप 156.4  
 विरुपितांग 153 24  
 शिव 767.1  
 विरुपण  
 अंग विरुपण 153 7  
 विरुपता  
 असादृश्य 310 1  
 कुरुपता 156 2  
 तोड़ मरोड़ 975 13  
 विरुपाक्ष  
 दानव सूची 783.13  
 यक्ष सूची 779.3  
 राक्षस सूची 784 4  
 शिव 767.1  
 विरुपित  
 विरुपितांग 153.24  
 विरुपितांग  
 विरुपितांग 153.24 ⇨  
 विरेधक  
 विरेधक 216 8 ⇨  
 विरेधन  
 कुंठा मोघन 352 12  
 कैथार्सिस 399 15  
 जुलाब 216.10  
 विरेधन रोग  
 दस्त 216.12  
 विरोधन  
 आलोकक 285.46  
 चंद्रमा 8.2  
 बलि. पिता 769.38  
 मंगल ग्रह 7.7  
 विष्णु 788.1  
 शिव 767.1  
 विरोधना  
 स्त्री सूची 783.21  
 विरोद्धा  
 संघर्षशील 905.32  
 विरोध  
 आपत्ति 326.4  
 कलह 708.1  
 ठनाठनी 708.6  
 प्रतिरोध 915.1  
 प्रतिरोध 329.4  
 विपरीतता 310.2  
 विरोध 886.4 ⇨  
 हानुता 708.1  
 सत्ता विरोध 902.7  
 विरोध अभिव्यक्त करना  
 मतभेद प्रदर्शन करना 338.21  
 विरोध करना  
 आंदोलन करना 902.22  
 प्रतिरोध करना 329.14

विरोध करना 886.5 ⇨  
 विरोध कर्ता  
 प्रतिरोधी 329 25  
 विरोधी 886 7  
 विरोधजनक  
 आपत्तिजनक 326 20  
 विरोधन  
 योद्धा 934.15  
 विरोध पक्ष  
 विरोध पक्ष 886.3 ⇨  
 विरोधपूर्ण  
 एकताहीन 699 14  
 विरोधपूर्णक  
 विरुद्धतः 886 8  
 विरोध प्रदर्शन  
 जन प्रदर्शन 902.10  
 मतभेद प्रदर्शन 338.5  
 विरोध प्रदर्शन करना  
 मतभेद प्रदर्शन करना 338.21  
 विरोधहीन  
 विरोधहीन 887.13 ⇨  
 विरोधहीनता  
 विरोधहीनता 887.4 ⇨  
 विरोधार्थकता  
 विपर्यायता 426.26  
 विरोधार्थी  
 विपर्यायवाची 426 40  
 विरोधित  
 अस्वीकृत 338.33  
 प्रतिरोधित 329.24  
 विरोधिता  
 विपक्षधरता 886.1  
 विरोधी  
 असंगत 439.5  
 प्रतियोगी 707.9  
 प्रतिरोधी 329.25  
 विरोधी 886.7 ⇨  
 हानु 706.2  
 संघर्षशील 905.32  
 सामंजस्यहीन 701 9  
 विरोधी बल नेता  
 विपक्ष नेता 889.11  
 विरोधी पक्ष  
 उत्तर पक्ष 324.13  
 विरोधीति  
 विपरीतोक्ति 434.10  
 विलिखक  
 मर्यादा उल्लंघक 809.8  
 लंघक 1097.22  
 विलिखन  
 अचङ्गा 348.1  
 लंघन 1097.7  
 विलिखित  
 अचङ्गाकृत 348.6  
 पराजित 913.5  
 लंघित 1097.21  
 विलिख्य  
 जेय 518.20

## दिलंब

### दिलंब

दिलंब 495.1 ⇨

### दिलंबक

दिलंबकारी 495.12

### दिलंब कर्ता

दिलंबकारी 495.12

### दिलंबकारी

दिलंबकारी 495.12 ⇨

### दिलंबतः

दिलंबतः 495.16 ⇨

### दिलंबन

प्रलंबन 1024.1

### दिलंबपूर्वक

दिलंबतः 495.16

### दिलंबहीन

शीघ्रकारी 496.9

### दिलंबहीनता

शीघ्रता 496.1

### दिलंब होना

दिलंब होना 495.6 ⇨

### दिलंबित

ताल लय. प्रकार सूची 458.38

प्रलंबित 1024.10

दिलंबित 495.11 ⇨

स्वर लय सूची 465.13

### दिलंबित गति

दिलंबित गति 458.9 ⇨

### दिलंबित स्वर

स्वर अलंकार सूची 465.11

### दिल (अँ)

उत्तराधिकार पत्र 623.14

### दिलक्षण

जिज्ञासाजनक 305.43

परलौकिक 258.14

भुतहा [भुतही] 759.20

दिलक्षण 312.16 ⇨

### दिलक्षणता

भुतहापन 759.6

दिलक्षणता 312.3 ⇨

### दिलक्षण दर्शन

दिलक्षण दर्शन 342.8 ⇨

### दिलक्षण वस्तु

दिलक्षण वस्तु 312.6 ⇨

### दिलक्षण वेश

फैसी ड्रेस 589.21

### दिलक्षण होना

दिलक्षण होना 312.11 ⇨

### दिलक्षणा (प्र)

दिलक्षण दर्शन 342.8

### दिलग

हटा [हटी] 32.9

### दिलग करना

दिलग करना 1011.4 ⇨

### दिलगतः

दिलगतः 1011.7 ⇨

### दिलगता

हटापन 32.3

### दिलगन

घयन 1009.2

परिशाश विभाजन 699.4

दिलगनन 1011.1

### दिलगन (बै.)

विघटन 544.1

दियोग कर्म 388.2

### दिलगना

दिलग होना 1011.3

### दिलग होना

दिलग होना 1011.3 ⇨

### दिलगाना

दिलग करना 1011.4

### दिलगाव

परित्याग 1003.1

दियोग 388.1

### दिलगित

अलगीझा कृत 699.19

दिलान 1011.5

### दिलगितला

दिलगनता 1011.2

### दिलगित न होना

अलग न होना 1010.18

### दिलगित्र (प्र)

इंसुलेटर 102.16

### दिलगन

तल्लीन 331.14

दिलान 1011.5 ⇨

### दिलगनक

दिलगनक 1011.6 ⇨

### दिलगनता

दिलगनता 1011.2 ⇨

### दिलगनन

दिलगनन 1011.1 ⇨

### दिलगपन

रुदन 386.1

### दिलब्ध

दिलब्ध 863.7 ⇨

### दिलब्ध वस्तु

दिलब्ध वस्तु 863.2 ⇨

### दिलब्ध होना

खो जाना 863.4

### दिलब्धि

अनुपलब्धता 942.4

दिलब्धि 863.1 ⇨

### दिलय

द्रवण 80.2

नदी दिलय 21.25

नाश 531.1

प्रलय 530.1

मृत्यु 249.1

दिलयन 21.26

दिलोप 824.7

### दिलयन

घुलन 1008.14

दिलयन 21.26 ⇨

सम्मिश्रण 1008.12

### दिलय स्थल

दिलय स्थल 21.27 ⇨

### दिलय होना

दिलय होना 21.33 ⇨

### दिलयित

एकीकृत 698.10

द्रवित 80.6

दिलयित 21.41 ⇨

### दिलयितता

सम्मिश्रितता 1008.13

### दिलसना

दिलास करना 363.12

शोभान्वित होना 226.7

### दिलाघ

छलौंग 1086.10

### दिला (अँ)

भवन 602.7

### दिलाप

आर्लनाद 386.3

मृत्यु विलाप 253.15

रुदन 386.1

दिलाप 386.9 ⇨

### दिलाप करना

दिलाप करना 386.23 ⇨

### दिलाप कर्ता

दिलाप कर्ता 386.31 ⇨

### दिलापन

रुदन 386.1

### दिलापी [दिलापिनी]

दिलाप कर्ता 386.31

### दिलायत

परदेश 34.11

सायु सिद्धि 790.29

### दिलायती

परदेशीय 34.18

### दिलायती इत्र

सैंट 274.7

### दिलायती पनीर

चीज़ 193.12

### दिलास

श्रीका 469.4

दीप्ति 287.16

मनोरंजन 469.1

दिलास 363.6 ⇨

विवाह अनिच्छा 806.1

### दिलासक

पर्यटक 1090.7

### दिलास करना

दिलास करना 363.12 ⇨

### दिलास कोईक

कामदेव 773.12

### दिलास गृह

ऐश्वर्य भवन 602.12

### दिलासना

दिलास करना 363.12

### दिलासप्रिय

दिलासी 363.20

### दिलासप्रियता

दिलासप्रियता 363.7 ⇨

### दिलासिता

दिलासप्रियता 363.7

वेरयागमन 807.1

### दिलासिनी

वेरया 807.5

व्यभिचारिणी 808.11

सुंदर स्त्री 157.2

### दिलासी

कामदेव 773.12

कामुक 237.14

कृष्ण 771.1

पर्यटनशील 1090.45

वरुण 773.43

विनोदी 385.13

दिलासी 363.20 ⇨

विश्राम प्रेमी 490.12

व्यभिचारी 806.10

### दिलासी [दिलासिनी]

आनंदशील 362.19

श्रीकाप्रिय 469.18

दिलासी 363.20

### दिलिंग

अपरिनाम्ब्य 317.20

### दिलिप्त

आसक्त 365.5

तल्लीन 331.14

### दिलीन

अप्रचलित 515.10

अस्तागत 5.30

धुला [धुली] 1008.28

धू मंतर कृत 474.39

द्रवित 80.6

नष्ट 531.7

मृत 249.23

दिलयित 21.41

दिलुप्त 824.24

### दिलीनता

दिलोप 824.7

### दिलीनन

धू मंतरः कर्म 474.15

दिलयन 21.26

### दिलुचन

लुचन 1017.3

### दिलुठित

लुटा [लुटी] 864.52

लुडका [लुडकी] 1031.29

### दिलुप्त

अप्रचलित 515.10

नष्ट 531.7

प्रच्छन्न 824.26

लुटा [लुटी] 864.52

दिलब्ध 863.7

दिलुप्त 824.24 ⇨

### दिलुप्त करी

अधिवानर 127.80



विलुप्तता  
विलोप 824.7  
विलुप्त वस्तु  
विलम्ब वस्तु 863.2  
विलुप्त होना  
विलुप्त होना 824.17 ⇌  
विलुप्ति  
नाश 531.1  
विलम्बि 863.1  
विलुम्बन  
आलुम्बन 359.7  
विलुम्बन  
आलुम्बन 359.7  
विलोच  
संभा 937.1  
विलोचक  
संभागीकरण कर्ता 937.11  
विलोचन  
चिह्नन 407.2  
विलोच्य  
अनुबंध पत्र 339.2  
संभा 937.1  
विलोचि  
संभागीकृत 937.10  
विलोच्यी  
संभागीकरण कर्ता 937.11  
विलेन (अ)  
खलनायक 467.9  
विलेपन  
आलेपन 292.3  
विलेपी  
पुताई कर्ता 291.13  
विलेप्य  
बलनीय 545.32  
विलेप्यकार  
आलेपक 292.12  
विलोकक  
आलोकक 285.46  
विलोकन  
अवलोकन 284.1  
विलोकनि  
अवलोकन शैली 284.4  
विलोकनीय  
सुंदर 157.7  
विलोकित  
अवलोकित 284.47  
विलोक्य  
दर्शनीय 400.13  
विलोचन  
अँख मारने वाला 284.8  
विलोच  
मंथन 554.12  
विलोकक  
मंथन कर्ता 554.27  
विलोकना  
मसलना 541.6  
विलोकित  
मंथित 554.26

विलोप  
तीव्र पलायन 916.4  
नाश 531.1  
विलोप 824.7 ⇌  
विलोपक  
नाशक 531.8  
विलोपक 824.25 ⇌  
विलोपन  
घटान कर्म 954.6  
बातिलकरण 338.12  
विलोपित  
बातिल 338.44  
विलोभक  
प्रलोभक 359.32  
विलोम्बन  
आलोम्बन 359.8  
दाम नीति 819.5  
पट्टी पढ़ाई 332.9  
सम्मोहन 367.2  
विलोभी  
लालसी 359.29  
विलोम  
अवरोह क्रमिक 991.23  
केशहीन 137.20  
प्रथा विपरीत 795.16  
वरुण 773.43  
विपरीत 310.7  
विरोधी 886.7  
विलोम क्रम  
अवरोह क्रम 991.4  
विलोमतः  
अवरोहत 991.30  
विलोमता  
विपरीतता 310.2  
विरुद्धता 886.2  
विलोल  
संचल 1037.19  
विलोलता  
परिवर्तनशीलता 532.2  
विलोलन  
झूलन 1034.1  
प्रलंबन 1024.1  
संचलन 1037.4  
विलोलित  
झुलता [झूलती] 1034.21  
विलोलुप  
लोमहीन 360.15  
विलोहित  
गहरा लाल 289.61  
विल्लोल  
कँची लहर 1040.19  
विल्व  
विल्व 190.27  
विल्वक  
सभा संचालक 694.20  
विल्वका  
अंतर्निहित अर्थ 428.8  
अभिव्यक्ति इच्छा 428.2

विवक्षित  
अभिव्यक्त 428.17  
कथित 430.16  
विवक्षित 428.32 ⇌  
विवक्षित अर्थ  
विवक्षित अर्थ 428.13 ⇌  
विवक्षितार्थ  
विवक्षित अर्थ 426.13  
विवक्षु  
अभिव्यक्ति इच्छुक 428.19  
विवर  
चिह्न 271.6  
त्वचा रंग 134.4  
नी. उपमान सूची 948.34  
पोल 271.17  
विदर 544.4  
विवरण  
परिभाषण 317.2  
परिभाषा 317.1  
लेखा चिट्ठा 632.22  
वर्णन 449.1  
वर्णन साहित्य 449.3  
वाक्य विषय 424.6  
विवरण 449.8 ⇌  
व्याख्या 427.15  
विवरण चिह्न  
विवरण चिह्न 425.38 ⇌  
विवरण चिह्न कोलन  
विवरण चिह्न कोलन 425.39 ⇌  
विवरण चिह्न कोलन ईश  
विवरण चिह्न कोलन ईश 425.40 ⇌  
विवरण चिह्न ईश  
विवरण चिह्न ईश 425.41 ⇌  
विवरण पुस्तक  
विवरण पुस्तक 446.19 ⇌  
विवरणपूर्वक  
विवरणपूर्वक 449.32 ⇌  
विवरण बही  
कार्य पंजी 632.12  
विनरणात्मक  
विनरणात्मक 449.28 ⇌  
विवरणिका  
बीयर 442.9  
विषर्जित  
घटान. बढ़ी संख्या 954.7  
निषिद्ध 880.12  
विषर्ण  
विषर्ण 291.18 ⇌  
शोभाहीन 226.12  
विषर्णता  
विषर्णता 289.23 ⇌  
विषर्ण रंग  
विषर्ण रंग 289.24 ⇌  
विषर्ण होना  
विषर्ण होना 291.10 ⇌  
विषर्त  
परिवर्तन 532.1  
पूर्ण परिवर्तन 532.8

भँवर 1040.24  
विषर्तक  
प्रकाश प्रसारक 288.13  
विषर्तन  
धुरी चक्रण 1033.1  
पृथ्वी आवर्तन 5.1  
विषर्तनशील  
चक्रावृत्तिशील 71.12  
विषर्तनिक संचलन  
विषर्तनिक संचलन 9.13 ⇌  
विषर्तनी  
विषर्तुल 1077.17  
विषर्तिका  
विषर्तुल 1077.17  
विषर्तित  
परिवर्तित (प्रकाश) 288.12  
परिवर्तित 532.16  
विषर्ती  
प्रतिगामी 1095.22  
विषर्तुल  
विषर्तुल 1077.17 ⇌  
विषर्धक  
वर्धक 979.22  
विषर्श  
असहाय 701.8  
शराधीन 901.9  
विकल्पहीन 516.5  
विषर्श 901.11 ⇌  
विषर्शतः  
असहायतः 701.10  
विकल्पहीनता 516.8  
विषर्शतः 901.13 ⇌  
विषर्शता  
अधिकारहीनता 898.1  
असहायता 701.2  
दुःखप्रस्तता 391.2  
विकल्पहीनता 516.3  
विषर्शता 901.3 ⇌  
वैश्वयकता 339.8  
विषर्श हो कर  
विषर्शतः 901.13  
विषर्श होना  
विषर्श होना 901.7 ⇌  
विषर्शत्र  
नग्न 590.16  
विषर्शत्रता  
नग्नता 590.1  
विषर्शत्रा  
नग्न स्त्री 590.3  
विषर्शत्रत  
वैश्वयकता मनु 788.5  
विषर्शत्रान  
अरुण 777.14  
दैन्य सूची 783.19  
बारह आदित्य सूची 777.4  
वैश्वयकता मनु 788.5  
सूर्य 8.1

## विवस्वान कालीन अवतार

विवस्वान कालीन अवतार मत्स्य अवतार 769 32	मुकुन्दमेवाज्ञ 875.24 बाद विवाद कर्ता 324 25	विवाह निमंत्रण विवाह पत्र 799 38	विवाह संबंध विवाह 799.1
विवस्वानः पुत्र इक्ष्वाकु 770.18	विवास वानप्रस्थाश्रम प्रवेश 233.5	विवाह निमंत्रण पत्र विवाह निमंत्रण पत्र 1056.3 ⇌	विवाह संबंधी विवाह 724.1 ⇌
विवाह वायु सूची 85.2	विवाह गृहस्थाश्रम प्रवेश 235 8	विवाह निरसन उलटे फेरे 800 26	विवाह संबंधी वैवाहिक संबंधी 724.2
विवाहन विवाहन 799 6	मैट्रिमनी 798.33	विवाह निष्ठा विवाह निष्ठा 805 1 ⇌	विवाह संस्कार विवाह 799.1
विवाक स्पष्ट वक्ता 430 19	वर्जित दूरय सूची 463 28	विवाह निष्कभवन विवाह लोप 804 11	विवाह सामग्री... विवाह सामग्री 802.9
विवाचक पंच विवाचक पंच 877 7 ⇌	विवाह 799.1 ⇌	विवाह लोप विवाह लोप 804 11	विवाह सामग्री विवाह सामग्री 802.9 ⇌
विवाचन विवाचन 877.6 ⇌	विवाह उत्सव 799.2	विवाह पत्र विवाह पत्र 799.38 ⇌	विवाह स्थल विवाह स्थल 802.27 ⇌
विवाचन पंचाट विवाचन पंचाट 877 8 ⇌	सोलह संस्कार सूची 798.3	विवाह पत्रिका विवाह पत्र 799 38	विवाह स्थल... विवाह स्थल 802 27
विवाद तकरार 708 7	विवाह अनिष्ठा विवाह अनिष्ठा 806.1 ⇌	विवाह पद्धति विवाह पद्धति 799.14 ⇌	विवाह स्थान विवाह स्थल 802.27
मुकुदमा 875 1	विवाह अभिषुन्यन विवाह लोप 804 11	विवाहपूर्व जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम 234.1	विवाह होना विवाह होना 799.42 ⇌
वाद विवाद 324 3	विवाह आकांक्षिणी विवाह आकांक्षिणी 799 62 ⇌	विवाह प्रतिज्ञा विवाह प्रतिज्ञा 799.40 ⇌	विवाहा विवाहित 799.64
विवाद 324.1 ⇌	विवाह आकांक्षी विवाह आकांक्षी 799.61 ⇌	विवाह प्रस्ताव विवाह प्रस्ताव 799 29 ⇌	विवाहाकाम्नी विवाह आकांक्षी 799 61
समस्या 333 11	विवाह आदिः पूज्य देवी सप्त मातृका 774.69	विवाह प्रस्ताव आना विवाह प्रस्ताव आना 799.49 ⇌	विवाहित विवाहित 799.64 ⇌
विवाद अंत विवाद समाधान 877 4	विवाह उत्सव विवाह उत्सव 799.2 ⇌	विवाह बंधन विवाह 799 1	विवाहित जीवन गृहस्थ आश्रम 235.1
विवाद कुशल वाद विवाद कुशल 324 26	विवाह करना गृहस्थाश्रम मे आना 235 10	विवाह भोज बरात भोज 183.9	विवाहित प्रेमिका ऊका नायिका 456.13
विवादग्रस्त विवादित 324 23	विवाह करना विवाह करना 799 45 ⇌	विवाह मंडप विवाह मंडप 802.29 ⇌	विवाहित स्त्री विवाहित स्त्री 236.7 ⇌
विवाद निर्णय न्याय निर्णय 877.14	विवाह कर्ता विवाह कर्ता 799 60 ⇌	विवाह मुहूर्त विवाह मुहूर्त 799.37 ⇌	विवाहित स्त्री उपाधि सूची विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.6 ⇌
विवाद प्रश्न वाद विषय 437 8	विवाह कलश विवाह कलश 802.21 ⇌	विवाह में देना पुत्री का विवाह करना 799 47	विवाहित होना विवाह करना 799.45
विवादप्रिय वितंडावादी 324 27	विवाहकाम विवाह आकांक्षी 799 61	विवाह लोप विवाह लोप 804 11 ⇌	विवाहिता विवाहिता 799.65 ⇌
विवाद विषय समस्या 333.11	विवाह कार्य होना विवाह कार्य होना 799.41 ⇌	विवाह वधन विवाह प्रतिज्ञा 799.40	विवाहिता परकीया नायिका ऊका नायिका 456.13
विवाद समाधान विवाद समाधान 877 4 ⇌	विवाह काल विवाह मुहूर्त 799 37	विवाह वस्त्र विवाह वस्त्र 802.22 ⇌	विवाहीय वैवाहिक 799.59
विवाद समाधान करना विवाद समाधान करना 877.20 ⇌	साया 799.35	विवाह विचार जन्म पत्री विचार 799 33	विवाहेच्छुक विवाह आकांक्षी 799.61
विवाद्यहीन निर्विवाद 324.24	विवाह कूट जन्म पत्री विचार 799.33	विवाह विच्छिन्न तलारगुरुदा 804.27	विवाहेतर जारज 716.18
विवाद होना विवाद होना 324.17 ⇌	विवाह के दिन साया 799.35	विवाह विच्छेद तलार 804.8	विवाहेतर प्रेम विवाह अनिष्ठा 806.1
विवादातीत निर्विवाद 324.24	विवाह गीत विवाह गीत 796.20 ⇌	विवाह विच्छेद करना तलार देना 804.23	विवाहेतर संस्कार गर्भाधान संस्कार 798.4
विवादात्मक समस्यात्मक 333 25	विवाह घटक विवाह घटक 801.1 ⇌	विवाह विधि विवाह पद्धति 799 14	विवाह्य वर 801.10
विवादात्मक विवादित 324.23	विवाह घटुक विवाह घटुक 801.1 ⇌	विवाह वेदी विवाह वेदी 802.30 ⇌	विवाह्य संभागीकृत 937.10
विवादित विवादित 324 23 ⇌	विवाह चतुष्टय चतुष्टयत्व 799 13	विवाह वर विवाह वर 801.10	विवाह्य स्पष्ट 822.20
विवादित होना विवाद होना 324.17	विवाह जन्म आदि उत्सव मंगलोत्सव 798.1	विवाह वर विवाह वर 801.10	विवाह्य विद्योग 388.1
विवादी अभियोक्ता 875 5	विवाह जयंती विवाह जयंती 58 4	विवाह वर विवाह वर 801.10	
कलहप्रिय 708 13	विवाह दिवस विवाह दिवस 799.34 ⇌	विवाह वर विवाह वर 801.10	
तकरारी 708.14	विवाह दिवस 58.4 ⇌	विवाह वर विवाह वर 801.10	
	विवाह दिवस निश्चित करना विवाह किस निश्चित करना 799.52 ⇌	विवाह वर विवाह वर 801.10	
	विवाह विवाहन 799.6 ⇌	विवाह वर विवाह वर 801.10	

संभाग 937.1  
**विविध**  
 अनेक 940.10  
 सुर्दा 886.14  
 बहुपार्थीय 997.10  
 विविध 310.8 ⇌  
 सर्वतोमुखी 29.29  
**विविधतः**  
 विविधतः 310.11 ⇌  
**विविधता**  
 अनेकता 940.2  
 बहुपार्थीयता 997.2  
 विविधता 310.3 ⇌  
 सर्वतोमुखता 29.8  
**विविध पारम्पर्यगत**  
 पिडाकार 976.15  
**विविध पारम्पर्यगता**  
 पिडाकारता 976.2  
**विविध बीमा**  
 आम बीमा 631.18  
**विविध मनोरंजन**  
 विविध मनोरंजन 468.3 ⇌  
**विविध संकलन**  
 विविध संग्रह 669.3  
**विविध संग्रह**  
 विविध संग्रह 669.3 ⇌  
**विविध सामग्री**  
 विविध सामग्री 669.4 ⇌  
**विविध सामग्री: उपमान सूची**  
 विविध सामग्री: उपमान सूची 669.5 ⇌  
**विविधा**  
 विविध मनोरंजन 468.3  
 विविध संग्रह 669.3  
 संग्रह 669.2  
**विविध**  
 अधिक 944.5  
**विवेक**  
 अंतरात्मा 351.4  
 गुणज्ञता 305.15  
 विवेक 301.7 ⇌  
 विवेकाधिकार 897.3  
**विवेक (दे.)**  
 बुद्धि 301.1  
**विवेकपूर्ण अहं**  
 अंतरात्मा 351.4  
**विवेकवाद**  
 विवेकवादी 325.16 ⇌  
**विवेकवादी**  
 विवेकवादी 325.25 ⇌  
**विवेकवान**  
 विवेकी 301.26  
**विवेकशील**  
 विवेकी 301.26  
**विवेकहीन**  
 अविचारक 330.23  
 अविवेकी 302.11  
 जल्दबाज़ 496.12  
 मूर्ख 302.7

**विवेकहीनतः**  
 जल्दबाज़ी में 496.14  
**विवेकहीनता**  
 अविवेक 302.4  
**विवेका (प्र)**  
 अंतरात्मा 351.4  
**विवेकाल्पा**  
 अहुरमज़्द 764.13  
**विवेकाधिकार**  
 विवेकाधिकार 897.3 ⇌  
**विवेकी**  
 गुणज्ञ 305.34  
 विचारक 330.6  
 विवेकी 301.26 ⇌  
**विवेकीकरण**  
 विवेकीकरण 325.15 ⇌  
**विवेचक**  
 विवेचक 427.31 ⇌  
 समीक्षक 398.5  
**विवेचन**  
 तथ्यान्वेषण 336.1  
 विज्ञान 307.1  
 विवेचन 427.14 ⇌  
**विवेचना**  
 कला समीक्षा 398.3  
 विवेचना 427.13 ⇌  
**विवेचित**  
 परिभाषित 317.17  
**विरा**  
 जनता 883.5  
 जाति 730.1  
 वैश्य 731.24  
**विराद**  
 आलोकित 285.45  
 प्रस्फुटित 119.10  
 विराद 822.21 ⇌  
 सविस्तार विवृत 449.29  
 स्पष्ट 822.20  
**विराद अर्थ**  
 व्याख्या 427.15  
**विराद टीका**  
 माध्य 427.11  
**विरादता**  
 विरादता 822.2 ⇌  
**विरादन**  
 रंग प्रस्फुटन 291.3  
 विरादन 822.3 ⇌  
 व्याख्यायन 427.16  
**विराद रंग**  
 प्रस्फुटित रंग 289.27  
**विराद होना**  
 विराद होना 822.14 ⇌  
**विरास्य**  
 नोकहीन 270.23  
**विरास्य**  
 उर्मिला 770.19  
**विरासति**  
 व्यापार अध्येक्ष 657.3

**विरास्य**  
 कनस्टिंग रीड (अँ) 1077.16  
 शाखाहीन 114.16  
**विरास्यक**  
 शाखायुक्त 114.15  
**विरास्य**  
 दूब घास 11.10  
 नक्षत्र सूची 4.6  
**विराश**  
 शापमुक्त 713.11  
**विराशद**  
 ख्यात 847.3  
 प्रौढी 301.25  
 विद्वान 319.8  
 विद्वान व्यक्ति 319.2  
**विराशदता**  
 बुद्धिमत्ता 301.5  
 विद्वता 319.1  
**विराशद्य**  
 बुद्ध आत्मविश्वास 793.5  
**विराश**  
 अत्यधिक 944.7  
 उच्च 982.7  
 बृहत् 979.15  
 ब्रह्मांड 1.1  
 महान 839.8  
 विस्तीर्ण 981.10  
**विराश [विराशला]**  
 महाकाय 154.22  
**विराशक**  
 बृहत्कर्ता 979.16  
**विराशकाय**  
 भीम 771.76  
 महाकाय 154.22  
**विराशकायता**  
 महाकायता 154.7  
**विराशकाय दानव**  
 देव दानव 783.16  
**विराश कुठला**  
 सिलो 670.17  
**विराश कोण**  
 बृहद् कोण 970.4  
**विराश टंकी**  
 सिलो 670.17  
**विराशला**  
 महानता 839.1  
 विकरालता 154.8  
 विशाल हृदयता 817.5  
 विस्तीर्णता 981.1  
**विराश धनकोश**  
 विशाल धनकोश 630.2 ⇌  
**विराशलनयन**  
 विशालनयन 158.26 ⇌  
**विराशलनयना**  
 विशालनयना 158.27 ⇌  
**विराशल पटल**  
 हॉडिंग 442.14

**विराशल परिवार**  
 कुटुंब 726.7  
**विराशलबाहु**  
 विशालबाहु 158.32 ⇌  
**विराशल मात्रा**  
 विशाल मात्रा 946.8 ⇌  
**विराशल युद्ध**  
 महायुद्ध 90.8  
**विराशललोचन**  
 विशालनयन 158.26  
**विराशललोचना**  
 विशालनयना 158.27  
**विराशलबक्षा**  
 उभरे स्तन वाली 158.28  
**विराशल संख्या**  
 विशाल संख्या 949.5 ⇌  
**विराशल समूह**  
 महा समूह 690.3  
**विराशल हृदय**  
 दानवीर 641.28  
**विराशलहृदय**  
 विशालहृदय 817.11 ⇌  
**विराशल हृदयता**  
 दानीत्व 641.2  
 विशाल हृदयता 817.5 ⇌  
**विराशलाक्ष**  
 गरुड 777.15  
**विराशलाक्षी**  
 दुर्गा मूर्ति सूची 746.4  
 विशालनयना 158.27  
**विराशलीकरण**  
 बृहदीकरण 979.2  
**विराश**  
 गंजा 137.30  
**विराश**  
 देव मंदिर 745.30  
**विराश**  
 सिरहीन 140.24  
**विराश**  
 उत्तम 313.13  
 उपमान 309.8  
 उत्ल्लेखनीय 437.14  
 गण्य 852.9  
 विशिष्ट 312.15 ⇌  
 विशिष्ट लक्षणयुक्त 317.26  
 व्यक्तित्वयुक्त 836.7  
**विराश अंतर**  
 विशिष्टता 312.2  
**विराश अस्तित्व**  
 प्रतिष्ठा 849.2  
**विराश गुण**  
 विशिष्टता 312.2  
**विराश चिकित्साक**  
 चिकित्सीय विशेषज्ञ 173.2  
**विराश चिकित्सा**  
 चिकित्सा विशेषज्ञता 173.1  
**विराश जन**  
 विशिष्ट जन 728.13 ⇌

## विशिष्टतः

**विशिष्टतः**  
 विशिष्टतः 312.20 ⇨  
**विशिष्टता**  
 कला शैली 397.14  
 गण्यता 852.2  
 विशिष्टता 312.2 ⇨  
 व्यक्तित्व 836.1  
**विशिष्ट बल**  
 रिज़र्व सेना 932.4  
**विशिष्ट लक्षण**  
 विशिष्ट लक्षण 317.8 ⇨  
**विशिष्ट लक्षणयुक्त**  
 विशिष्ट लक्षणयुक्त 317.26 ⇨  
**विशिष्ट वेश**  
 विशिष्ट वेश 589.11 ⇨  
**विशिष्ट सेना**  
 रिज़र्व सेना 932.4  
**विशिष्टाद्वैत**  
 विशिष्टाद्वैत वाद 760.9  
**विशिष्टाद्वैत वाद**  
 विशिष्टाद्वैत वाद 760.9 ⇨  
**विशिष्टाद्वैत संप्रदाय**  
 विशिष्टाद्वैत संप्रदाय 737.44 ⇨  
**विशिष्टाधिकार**  
 पेटेंट 821.14  
**विशिष्टीकरण**  
 संभागीकरण 937.2  
**विशिष्टीकृत**  
 संभागीकृत 937.10  
**विशीर्ण**  
 विदीर्ण 544.18  
**विशीर्षा**  
 सिरहीन 140.24  
**विशु (केरल)**  
 नव वर्ष सूची 42.19  
**विशुद्ध**  
 अमिश्रित 1008.30  
 परिपूर्ण 313.14  
 पापहीन 813.9  
 विशुद्ध 219.7 ⇨  
**विशुद्ध चक्र**  
 बहुचक्र सूची 757.8  
**विशुद्ध ज्ञान**  
 केवल ज्ञान 781.5  
**विशुद्धता**  
 अमिश्रितता 1008.18  
 विशुद्धता 219.2 ⇨  
**विशुद्धा**  
 नवशक्ति सूची 776.19  
**विशुद्धात्मा**  
 सदाशय 817.10  
**विशुद्धि**  
 विशुद्धता 219.2  
**विशुष्कन**  
 शुष्कन 89.2  
**विशुष्पिका**  
 हैप्पा 215.28

**विशुष्य**  
 निर्वात 1005.4  
 निर्वातता 1005.3  
**विशुष्यल**  
 क्रमहीन 992.5  
 बकवासी 428.28  
 योजनाहीन 520.21  
 संदर्भहीन 439.7  
**विशुष्यलता**  
 क्रमहीनता 992.1  
**विशुष्यसित**  
 अव्यवस्थित 894.9  
**विशुष्यसित होना**  
 अव्यवस्थित होना 894.8  
**विशुग**  
 सींगहीन 140.26  
**विशेष**  
 कोटि 836.1  
 गण्य 852.9  
 विशिष्ट 312.15  
 व्यक्तित्वयुक्त 836.7  
**विशेष अधिकार**  
 विशेषाधिकार 897.4  
**विशेषक**  
 तिलक 225.19  
 विशेषक 425.13 ⇨  
**विशेषकृत**  
 कोटिकरण कर्ता 936.14  
**विशेषज्ञ**  
 चिकित्सीय विशेषज्ञ 173.2  
 विशेषज्ञ 305.36 ⇨  
**विशेषज्ञ चिकित्सक**  
 चिकित्सीय विशेषज्ञ 173.2  
**विशेषज्ञता**  
 चिकित्सा विशेषज्ञता 173.1  
 विशेषज्ञता 305.17 ⇨  
 शास्त्रज्ञता 318.3  
**विशेष ज्ञान**  
 विशेषज्ञता 305.17  
 शास्त्र 318.2  
**विशेषण**  
 विशेषण 425.11 ⇨  
**विशेषतः**  
 विशिष्टतः 312.20  
**विशेष तत्त्व**  
 लक्षण 317.5  
**विशेष तरीका**  
 गुर 517.4  
**विशेषता**  
 गण्यता 852.2  
 लक्षण 317.5  
 विशिष्टता 312.2  
**विशेषता सूचक शब्द**  
 विशेषण 425.11  
**विशेष भाषा**  
 कूट भाषा 823.3  
**विशेष भेंटवार्ता**  
 विशेष भेंटवार्ता 445.20 ⇨

**विशेष ऊचि**  
 अनिरुचि 400.2  
**विशेष लोग**  
 विशिष्ट जन 728.13  
**विशेष संभाव्यता**  
 संभावक सूची 445.16  
**विशेष चुविधा**  
 विशेषाधिकार 897.4  
**विशेषांक**  
 विशेषांक 445.4 ⇨  
**विशेषाधिकार**  
 विशेषाधिकार 897.4 ⇨  
**विशेषाधिकार प्राप्त**  
 विशेषाधिकारी 897.17  
**विशेषाधिकारी**  
 विशेषाधिकारी 897.17 ⇨  
**विशेषित**  
 उँटा [उँटी] 1009.20  
 परिभाषित 317.17  
 संभागीकृत 937.10  
**विशेषी**  
 उँटा [उँटी] 1009.20  
**विशेषीकरण**  
 निगमन 325.13  
**विशेष्य**  
 परिभाष्य 317.19  
 विशेष्य 425.12 ⇨  
**विशोक**  
 अशोक 13.4  
**विशोधक**  
 विशोधक 219.9 ⇨  
 संशोधक 537.12  
**विशोधन**  
 पाप प्रायश्चित्त 813.4  
 विशोधन 219.1 ⇨  
 संशोधन 537.4  
 स्वच्छीकरण 218.2  
**विशोधन कर्ता**  
 विशोधन कर्ता 219.10 ⇨  
**विशोधनी**  
 इटमा: नगरी 766.13  
**विशोधित**  
 घटाया [घटाई] 954.14  
 विशुद्ध 219.7  
 संशोधित 537.11  
**विशोधित करना**  
 विशोधित करना 219.8 ⇨  
**विशोधिनी बीज**  
 जमालगोटा 216.9  
**विशोधी**  
 विशोधक 219.9  
 स्वच्छक 218.38  
**विशोधित**  
 शोभायुक्त 226.11  
 सुवेशित 589.27  
**विशोधक**  
 अवशोधक 1002.30  
 शुष्क कर्ता 89.10

**विशोधण**  
 शुष्कन 89.2  
**विशोधी**  
 शुष्क कर्ता 89.10  
**विश्रंभ**  
 गुप्त सूचना 866.17  
 गुप्त सूचना 866.17  
 प्रणय कलह 374.3  
 विश्वास 340.1  
**विश्रब्ध**  
 विश्रसनीय 340.13  
**विश्रब्ध**  
 ऋषि मुनि सूची 789.17  
 कुबेर: पिता 779.5  
 रावण: पिता 784.13  
**विश्रवा: श्वसुर**  
 माली 784.9  
**विश्रांत**  
 धका [धकी] 492.15  
 विश्रांत 494.21 ⇨  
 शांत 372.9  
**विश्रान्ति**  
 विश्राम 494.1  
**विश्रान्ति गृह**  
 विश्राम 1090.27  
**विश्राम**  
 अंत 995.1  
 विश्राम 494.1 ⇨  
**विश्राम कक्ष**  
 विश्राम कक्ष 1069.8 ⇨  
**विश्राम करना**  
 विश्राम करना 494.19 ⇨  
**विश्राम काल**  
 विश्राम काल 494.2 ⇨  
**विश्राम गृह**  
 रेस्ट हाउस 1090.27  
**विश्राम द्वेषी**  
 आलस्यहीन 493.12  
**विश्रामप्रद**  
 विश्रामप्रद 494.22 ⇨  
**विश्रामप्रिय**  
 विश्राम प्रेमी 490.12  
**विश्रामप्रियता**  
 विश्राम प्रेम 490.4  
**विश्राम प्रेम**  
 विश्राम प्रेम 490.4 ⇨  
**विश्राम प्रेमी**  
 विश्राम प्रेमी 490.12 ⇨  
**विश्राम वेषन**  
 विश्राम कक्ष 1069.8  
**विश्राम स्थल**  
 विश्राम स्थल 1090.19 ⇨  
**विश्रामहीनता:**  
 विना धके 493.17  
**विश्रामहीनता**  
 अथकान 493.5  
**विश्रामानुष्ठान**  
 प्रियुवटी 643.30

विश्वामालय  
रेफ्ट हाउस 1090.27  
विरलेप  
विद्योग 388.1  
विरलेपक  
मीमांसक 427.30  
विरलेपक 427.33 ⇨  
विरलेपण  
विच्छेदन 543.11  
विलग्न 1011.1  
विरलेपण 427.19 ⇨  
विरलेपण कर्ता  
विरलेपक 427.33  
विरलेपित  
विलग्न 1011.5  
विश्वंकर  
ईश्वर 764.1  
नेत्र 141.1  
ब्रह्मा 766.1  
सृष्टि रचेता 529.5  
विश्वंभर  
इंद्र 773.5  
ईश्वर 764.1  
ब्रह्मा 766.1  
विष्णु 768.1  
विश्वंभरा  
पृथ्वी 9.1  
विश्व  
अनंत स्थान 33.3  
तेरहः उपमान सूची 948.45  
ब्रह्मांड 1.1  
लोक 258.1  
विश्व स्तरीय 35.9  
सर्वव्यापक 981.13  
विश्वक  
पूर्णांशिक 940.13  
विश्वकता  
सर्वव्यापकता 981.4  
विश्व कर्ता  
सृष्टि रचेता 529.5  
विश्वकर्म सुता  
संज्ञा 774.94  
विश्वकर्मा  
ईश्वर 764.1  
राजगीर 599.20  
विश्वकर्मा 773.44 ⇨  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1  
साधु संन्यासी 790.1  
सूर्य 8.1  
सृष्टि रचेता 529.5  
स्वपतिः उपमान सूची 599.3  
विश्वकर्माः पुत्र  
नल 781.11  
विश्वकर्मा पूजन  
विश्वकर्मा पूजन 57.25 ⇨  
विश्वकेतु  
अभिरुद्र 771.34

विश्वकोश  
ज्ञानकोश 446.10  
विश्वकसेन  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1  
विश्व खेल प्रतियोगिता  
विश्व खेल प्रतियोगिता 475.16 ⇨  
विश्वग  
सर्वव्यापक 981.13  
विश्वगत  
सर्वव्यापक 981.13  
विश्वगुरु  
विश्वगुरु 323.6 ⇨  
विश्वगोप्ता  
इंद्र 773.5  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1  
विश्व गोलक  
ब्रह्मांड 1.1  
विश्वचक्षु  
सर्वदर्शी 284.52  
विश्वजनीन  
विश्व स्तरीय 35.9  
विश्वजय  
विश्वजय 912.6 ⇨  
विश्वजयी  
विश्व विजेता 912.20  
विश्वजित  
दानव सूची 763.13  
विष्णु 768.1  
विश्वजेता  
विश्व विजेता 912.20  
विश्व वर्शन  
जीवन दर्शन 760.5  
विश्वदूक  
सर्वदर्शी 284.52  
विश्वदेव  
विश्वदेव 777.9  
विश्वधारी  
देवता 772.1  
विश्वनाथ  
ईश्वर 764.1  
ज्योतिर्लिग सूची 746.19  
तिरुपति अवतार 769.10  
शिव 767.1  
शिवः ज्ञांत रूप 767.24  
विश्वनाथ  
विष्णु 768.1  
विश्व नाथि  
सुदर्शन चक्र 928.3  
विश्वपति  
विष्णु 768.1  
विश्वपाणि  
बोधिसत्त्व सूची 763.16  
विश्वपाल  
ईश्वर 764.1  
विश्व पावनी  
तुलसी 13.9

विश्व बीज  
मूल प्रकृति 762.2  
विश्वबोध  
गीतम बुद्ध 793.1  
विश्वभद्र  
सर्वतोभद्र चक्र 407.19  
विश्वभुज  
अग्नि 106.1  
विश्व भ्रमण  
विश्व्राटन 1090.12  
विश्व माता  
दुर्गा 776.7  
विश्वमूर्ति  
शिव 767.1  
विश्व मोहन  
विष्णु 768.1  
विश्व यात्रा  
विश्व्राटन 1090.12  
विश्वयुद्ध  
विश्वयुद्ध 905.18 ⇨  
विश्वरथ  
विश्वामित्र 789.20  
विश्वरूप  
देवता 772.1  
सर्वव्यापक 981.13  
विश्वरूपता  
सर्वव्यापकता 981.4  
विश्वरूपी  
अनेकाकार 967.15  
सर्वव्यापक 981.13  
विश्व विख्यात  
विश्व विख्यात 847.4 ⇨  
वि-3 विजय  
विश्वजय 912.6  
विश्व विजयी  
विश्व विजेता 912.20  
विश्व विजेता  
विश्व विजेता 912.20 ⇨  
विश्व विज्ञान  
तस्मांड विज्ञान 13  
विश्वविद  
पूर्णविद्य 318.5  
सर्वज्ञ 305.37  
विश्व विद्यालय  
शिक्षालय सूची 321.11  
विश्व विद्वान  
अनेक विषय विद्वान 319.9  
सर्वज्ञ 305.37  
विश्व विद्वान  
विश्व विख्यात 847.4  
विश्ववेदा  
ऋषि 789.2  
महाज्ञानी 305.31  
विश्वव्यापक  
सर्वव्यापक 981.13  
विश्वव्यापकता  
सर्वव्यापकता 981.4

विश्वव्यापी  
सर्वव्यापक 981.13  
विश्व संग्राम  
विश्वयुद्ध 905.18  
विश्व संहार  
प्रलय 530.1  
विश्वसन  
ऋषि आश्रम 745.4  
विश्वसनीय  
विश्वसनीय 340.13 ⇨  
विश्वसनीयता  
निष्ठा 826.1  
विश्वसनीयता 340.2 ⇨  
विश्वसह  
सहिष्णु 872.18  
विश्व साक्षी  
ईश्वर 764.1  
विश्व सुष्टा  
ब्रह्मा 766.1  
सृष्टि रचेता 529.5  
विश्व सुष्टि  
सृष्टि रचना 529.1  
विश्वसोत्पादकता  
विश्वसनीयता 340.2  
विश्वस्त  
परीक्षित 322.37  
प्रत्यापित 327.15  
विश्वसनीय 340.13  
विश्वस्तता  
विश्वसनीयता 340.2  
विश्वस्त वाली  
विश्वस्त दासी 651.12 ⇨  
विश्वस्त मित्र  
निस्वार्थ मित्र 705.10  
विश्व स्तरीय  
विश्व स्तरीय 35.9 ⇨  
विश्व हर्ता  
शिव 767.1  
विश्वोड  
ब्रह्मांड 1.1  
विश्व  
पृथ्वी 9.1  
विश्व 787.21 ⇨  
विश्वी  
अपसरा सूची 782.3  
विश्व्राटन  
विश्व्राटन 1090.12 ⇨  
विश्व्राट्णा  
ईश्वर 764.1  
ब्रह्मा 766.1  
सूर्य 8.1  
विश्व्राधिप  
ईश्वर 764.1  
विश्वानर  
इंद्र 773.5  
सविता 774.95  
विश्वाम्बु  
कामरूपी 532.21

## विश्वामित्र

### विश्वामित्र

ऋषि मुनि सूची 789.17  
विश्वामित्र 789.20 ⇨  
रात्रुहीन 706.17

### विश्वामित्र प्रिय

राम 770.1

### विश्वायन

सर्वज्ञ 305.37

### विश्वामित्र

गंधर्व 778.3  
गंधर्व सूची 778.5  
लोकोपकारी 832.14  
विष्णु 768.1

### विश्व संतान

विश्वेदेव 777.9

### विश्वास

आस्था भाव 752.13  
धर्म 735.1  
भक्ति 752.1  
वाद 343.10  
विश्वास 340.1 ⇨  
श्रद्धा 340.5

### विश्वास (दे.)

पूर्ण आशा 375.3

### विश्वास करना

विश्वास करना 340.9 ⇨

### विश्वास कर्ता

विश्वासी 340.14

### विश्वास कार्य

गुप्त कार्य 824.5

### विश्वासघात

विश्वासघात 827.4 ⇨

### विश्वासघात करना

विश्वासघात करना 827.13 ⇨

### विश्वासघाती

विश्वासघाती 827.19 ⇨

### विश्वास ब्रह्म

विश्वासघात 827.4

### विश्वासपर

विश्वासी 340.14

### विश्वास पात्र

विश्वसनीय 340.13

### विश्वास पात्रता

विश्वसनीयता 340.2

### विश्वासपूर्ण

विश्वासी 340.14

### विश्वासप्रब

विश्वसनीय 340.13

### विश्वासप्रवृत्ता

विश्वसनीयता 340.2

### विश्वास भंग

विश्वासघात 827.4

### विश्वासशील

विश्वासी 340.14

### विश्वास ईता

विश्वासघाती 827.19

### विश्वासहीन

अविश्वासी 341.7

### विश्वासाहीनता

अविश्वास 341.1

### विश्वास होना

विश्वास होना 340.12 ⇨

### विश्वासी

अविचल 500.15  
भक्त 752.2  
विश्वासी 340.14 ⇨  
श्रद्धालु 340.18

### विश्वासात्पादक

विश्वसनीय 340.13

### विश्वास्य

विश्वसनीय 340.13

### विश्वीय

विश्व स्तरीय 35.9

### विश्वेदेव

अग्नि 106.1  
तेरह उपमान सूची 948.45  
विश्वेदेव 777.9 ⇨

### विश्वेदेव माता

विश्वा 787.21

### विश्वेदेव विषयक

विश्वेदेव विषयक 777.17 ⇨

### विश्वेदेव सूची

विश्वेदेव सूची 777.10 ⇨

### विश्वेश

ब्रह्मा 766.1

विष्णु 768.1

शिव 767.1

### विश्वेशा

विश्वा 787.21

### विश्वेश्वर

ईश्वर 764.1

विश्वेश्वर 746.13 ⇨

शिव 767.1

शिवलिंग सूची 746.17

### विश्वीचध

सॉठ 281.35

### विष

विष 177.2 ⇨

### विषकंठ

शिव 787.1

### विषघाती [विषघातिनी]

विषहर 177.11

### विषघ्न

विषहर 177.11

शिरीष 13.21

### विषज

विषजन्य 177.10

### विषजता

विषजन्यता 177.4

### विषजन

विषजन्य पदार्थ 177.5

### विषजन्य

विषजन्य 177.10 ⇨

### विषजन्यता

विषजन्यता 177.4 ⇨

### विषजन्य पदार्थ

विषजन्य पदार्थ 177.5 ⇨

### विषज रोग

विषज रोग 163.6 ⇨

### विषजण

दुःखी 391.24  
परघातापी 380.13

### विष तंत्र

विष हरण विज्ञान 177.7

### विष दंत

विष दंत 144.11 ⇨

### विषदंश

डक 144.12

### विषधर

विषधर सर्प 123.14  
सर्प 123.10

### विषधर सर्प

विषधर सर्प 123.14 ⇨

### विषधरी

मादा सर्प 123.11

### विष नाराक

विषहर 177.11

### विष नाराशन

विष हरण 177.6

### विषपायी

शिव 767.1

### विष पुच्छ

बिच्छू, डक 144.13

### विष भुजंग

विषधर सर्प 123.14

### विषमंत्र

सैंपरा 473.25

### विषम

अगम्य 519.25  
असंगत 439.5  
असमकक्ष 851.6  
असमतल 987.8  
असमरूप 967.22  
असामान्य 312.14  
एकांतर संख्यक 949.28  
एकांतरा 71.15  
कठिन 519.18  
कष्टप्रद 392.22  
कूट 823.12  
केंद्रहीन 971.23  
खड्ड 15.7  
दुर्बोध्य 519.23  
प्रबल 487.24  
भयानक 395.25  
विरोधी 886.7  
विषम संख्यक 949.30  
सामंजस्यहीन 701.9

### विषम काल

संकट काल 909.7

### विषम कोण

विषम कोण 970.3 ⇨

### विषम खात

विषम घन 977.19

### विषम घन

विषम घन 977.19 ⇨

### विषमताल

असमतल 987.6

### विषमता

असंगतता 439.1  
असमकक्षता 851.2  
असमतलता 987.1  
असमरूपता 987.11  
असादृश्य 310.1  
असामंजस्य 701.3  
कठिनता 519.1  
कुडीलता 155.3  
कुलीनता अकुलीनता 728.1  
विकरालता 154.8

### विषम पृष्ठ

वाम पृष्ठ 447.23

### विषमभाण

कामदेव 773.12

### विषम राशि

विषम संख्या 949.9

### विषम विभाजन

विषम विभाजन 699.8 ⇨

### विषमशर

कामदेव 773.12

### विषम संख्यक

विषम संख्यक 949.30 ⇨

### विषम संख्या

विषम संख्या 949.9 ⇨

### विषमार्क

विषम संख्यक 949.30

### विषमेषण

शिव 787.1

### विषमेषु

कामदेव 773.12

### विषय

इंद्रियार्थ 268.9  
उद्देश्य 508.2  
उपमेय 309.9  
ऐंद्रिक सुख 390.5  
कार्य 508.1  
जड पदार्थ 78.5  
पत्र पत्रिका, सामग्री 445.6  
पाठ्य विषय 322.4  
पूर्व पक्ष 324.11  
प्रकरण 424.7  
प्रसंग 437.1  
वाक्य विषय 424.6  
विभाग 937.3  
विषय 437.7 ⇨  
संदर्भ 437.3

### विषयक

विषयक 437.15 ⇨

संबंधीय 715.11

### विषय कामना

काम वासना 237.5

### विषय क्षेत्र

कार्य स्थान 654.1

विषय सारिका	विषयेतर	विषादित	विष्णु
विषय सूची 447 7	संदर्भहीन 439.7	दुःखी 391 24	आठ वसु सूची 777.8
विषयनिष्ठ ग्रन्थ	विषरूपा	विषादित	एक उपमान सूची 948.18
विषयनिष्ठ ग्रन्थ 333 6 ⇨	ककोडा 189 2	विभ्रता 380 2	पंचदेव सूची 772.33
विषय प्रवेश	विष शृंगी	विषादी	बारह आदित्य सूची 777.4
मुमिका 447.8	भिड़ 122.34	विभ्र 380.10	लक्ष्मीः पति 775 2
विषय बोधः साधन	विष चुष्का	शोकग्रस्त 383 8	वसु 777.5
ज्ञानेंद्रिय 268 5	भृंगरोल 122 35	विषादोन्माद	विष्णु 768.1 ⇨
विषय भोग	विषहर	विषादोन्माद 354.12 ⇨	शिव 767 1
विलास 363 6	विषहर 177.11 ⇨	विषापह	विष्णु (दे.)
विषय भोग करना	विष हरण	विषहर 177 11	हिंदू त्रिमूर्ति सूची 765.8
विलास करना 363 12	विष हरण 177.6 ⇨	विषादीय	विष्णुः अंशी
विषय भोगी	विष हरण विज्ञान	सकार्य 273 6	बलराम 771.74
विलासी 363 20	विष हरण विज्ञान 177 7 ⇨	विषायुध	विष्णुः अवतार
विषय भ्रं	विषहरा	सर्प 123 10	विष्णुः अवतार 769.5 ⇨
संदर्भ मे 437 16	मनसा 774 62	विषालु	सत्य नारायण 773.47
विषयरत	विषहरी	विषाक्त 177 9	विष्णुः आवास
विलासी 363 20	मनसा 774 62	विषालुता	विष्णुः आवास 768.7 ⇨
विषय वस्तु	विषहीन सर्प	विषाक्तता 177 3	विष्णु और शिव
वाक्य विषय 424 6	विषहीन सर्प 123.15 ⇨	विषी	विष्णु और शिव 768.17 ⇨
विषयवाद	विषातक	विषघर सर्प 123 14	विष्णुः खड्ग
भोगवाद 760 21	विषहर 177 11	विषुव	विष्णु खड्ग 924.5 ⇨
विषय वासना	शिव 767 1	विषुव 5 22 ⇨	विष्णुः गदा
आसक्ति 365 1	विषाक्त	विषुवत	विष्णुः गदा 768.12 ⇨
विषय वासना रूपी अज्ञान	विषाक्त 177.9 ⇨	केंद्रवर्ती 971.20	विष्णु गुप्तक
विषय वासना रूपी अज्ञान 761.2 ⇨	विषाक्तता	मध्यवर्ती 996.7	मूली 189.32
विषयवासनाहीनता	विषाक्तता 177.3 ⇨	विषुव 5.22	विष्णु चक्र
अनासक्ति 366 1	वैमनस्य 708 10	विषुवत रेखा पार गमन	सुदर्शन चक्र 928 3
विषय सुख	विषाक्त बाण	अयन 5.18	विष्णुः धरण चिह्न
ऐंद्रिक सुख 390.5	विषाक्त बाण 926.1 ⇨	विषुव दिन	विष्णुपद मूर्ति 746.8
विषय सूची	विषाण	विषुव 5.22	विष्णुः चौबीस अवतार सूची
विषय सूची 447 7 ⇨	उदंत 144.5	विषैला [विषैला]	विष्णुः चौबीस अवतार सूची 768.9 ⇨
विषयहीनता	तलवार 924 7	ऋषवा [कड़वी] 276 7	विष्णु तिथि
अनासक्ति 366.1	शिखर 982 6	विषाक्त 177.9	एकादशी 44.17
विषयांतरता	सींग 140.8	विषैला दंत	द्वादशी 44.18
संदर्भहीनता 439 3	विषाणी	विष दंत 144.11	विष्णुः तीन उग
विषया	सिघाका 190.35	विषैलापन	विष्णुः तीन उग 768.5 ⇨
ऐंद्रिक सुख 390.5	सींगदार 140.25	विषाक्तता 177.3	विष्णुः दस अवतार
विषयात्मक	हाथी 127.38	विष्कंभ	विष्णुः दस अवतार सूची
ऐंद्रिक 268.11	विषाणुज रोग	आधार 596 1	विष्णुः दस अवतार सूची 768.8 ⇨
विषयानुक्रमता	विषज रोग 163.8	मथनः स्तंभ 554.16	विष्णु देवी
संगतता 438 1	विषाणु नाशक	विष्कंभक	वैष्णव देवी 774.88
विषयानुक्रमणिका	रोगाणु नाशक 170.7	कार्य अंतराल 494.4	विष्णुः धनुष
इंडेक्स 993.8	विषाद	विष्टंभ	विष्णुः धनुष 926.11 ⇨
विषयानुसार	उघाटता 401.4	प्रहार सहन 920.1	विष्णुः नगर
संगत 438.8	उदासी 380.5	विष्टंभन	विष्णुः नगर 768.8 ⇨
विषयास्तक	धकान 492.4	दृढ़ आधारण 1019.7	विष्णुः नवी अवतार
आस्तक 365 5	विषादोन्माद 354.12	विष्ट	गीतम बुद्ध 793.1
विषयास्तक	शोक 383.1	धुसा [धुसी] 1094 29	विष्णुः पत्नी
कामुकता 237.6	हतासा 376.2	सहित 1006.2	विष्णुः पत्नी 768.8 ⇨
विषयास्तकहीन	विषादजनक	विष्टप	विष्णुपद
अनास्तक 366.5	शोकप्रद 383.9	गदा 679.1	कमल 14.4
विषयी	विषाद रोग	इस्पांड 1.1	विष्णुपद मूर्ति 746.8
आस्तक 365.5	अवसादानुमति 353.5	विष्टर	विष्णुपद मूर्ति
उपमान 309.8	विषादहीन	कुश आसन 595.3	विष्णुपद मूर्ति 746.8 ⇨
कामुक 237.14	शोकहीन 382.24	विष्टा	विष्णुपदी 20.10
ज्ञानेंद्रिय 268.5	विषादहीनता	देह मल सूची 215.2	
विलासी 363.20	शोकहीनता 382.9	विष्टा 216.2 ⇨	

## विष्णु पुराण

**विष्णु पुराण**  
पुराण सूची 740.17  
**विष्णुः पूर्णावतार सूची**  
*विष्णुः पूर्णावतार सूची 769.6 ⇌*  
**विष्णुप्रिया**  
सुलसी 13.9  
लक्ष्मी 775.1  
**विष्णु मंत्र**  
मंत्र सूची 741.4  
**विष्णु मंदिर**  
*विष्णु मंदिर 745.35 ⇌*  
**विष्णुः मणि**  
*विष्णुः मणि 768.11 ⇌*  
**विष्णुः माला**  
*विष्णुः माला 768.10 ⇌*  
**विष्णु मूर्ति**  
*विष्णु मूर्ति 746.6 ⇌*  
**विष्णु मूर्ति सूची**  
*विष्णु मूर्ति सूची 746.7 ⇌*  
**विष्णुयश**  
कल्किः पिता 769.15  
**विष्णुरात**  
परीक्षित 771.70  
**विष्णुः ब्रह्म चिह्न**  
*विष्णुः ब्रह्म चिह्न 768.3 ⇌*  
**विष्णुः ब्रह्म वैवरी**  
*विष्णुः ब्रह्म वैवरी 768.4 ⇌*  
**विष्णुः ब्रह्मस्थल मणि**  
कौस्तुभ मणि 96.16  
**विष्णु बटी**  
शालग्राम बटी 938.47  
**विष्णुः बाहन**  
गरुड 777.15  
*विष्णुः बाहन 768.14 ⇌*  
**विष्णु विषयक**  
*विष्णु विषयक 768.18 ⇌*  
**विष्णुः शंख**  
*विष्णुः शंख 768.13 ⇌*  
**विष्णु शक्ति**  
भगवती 774.59  
लक्ष्मी 775.1  
**विष्णुः शक्ति**  
*विष्णुः शक्ति 768.2 ⇌*  
**विष्णुः शय्या**  
*विष्णुः शय्या 768.9 ⇌*  
**विष्णु शिला**  
शालग्राम बटी 938.47  
**विष्णुः सप्तकक्ष**  
अर्यमा 773.2  
**विष्णुः स्त्री रूप**  
मोहिनी अवतार 769.11  
**विष्णुक**  
सर्वलोकमुखी 29.29  
सर्वव्यापक 981.13  
**विसंकट**  
विकराल 154.23  
**विसंक्रामक**  
*विसंक्रामक 170.9 ⇌*

**विसंगत**  
असंगत 439.5  
सामंजस्यहीन 701.9  
**विसंगतता**  
असंगतता 439.1  
असामंजस्य 701.3  
क्रमहीनता 992.1  
संदर्भहीनता 439.3  
**विसंगति**  
असंगतता 439.1  
असामंजस्य 701.3  
क्रमहीनता 992.1  
**विसंबंधी**  
अपव्ययी 644.24  
**विसंज्ञ**  
चेतनाहीन 264.20  
**विसंज्ञित**  
चेतनाहृत 264.21  
**विसंज्ञीकरण**  
चेतनाहरण 264.3  
**विसंयुक्त**  
कर्तित 543.14  
**विसंयुजन**  
विलग्न 1011.1  
**विसंयुक्तता**  
रहितताः 1007.4  
**विसंयुक्त**  
समूह निर्वासित 870.29  
**विसंयुक्तन**  
समूह निर्वासन 870.12  
**विसंयुक्तित**  
समूह निर्वासित 870.29  
**विसंयोग**  
प्रिय वियोग 388.3  
रहितता 1007.1  
**विसंयोगित**  
वियोगित 388.7  
**विसंयोगी**  
वियोगी 388.8  
**विसंयोजक**  
वियोग कर्ता 388.11  
विलग्नक 1011.6  
**विसंयोजन**  
वियोग कर्म 388.2  
विलग्नन 1011.1  
**विसंबादी**  
वचन बंग कर्ता 338.48  
**विसंस्करण**  
असम्भीकरण 734.2  
**विसम्भीकरण**  
असम्भीकरण 734.2  
**विसम**  
असंगत 439.5  
असदृश 310.6  
असामान्य 312.14  
**विसमरूपता**  
असमरूपता 967.11

**विसमूह**  
समूह निर्वासित 870.29  
**विसमूहन**  
*विसमूहन 668.13 ⇌*  
*विसमूहन 694.24 ⇌*  
**विसमूहन (दे.)**  
विसमूहन 668.13  
**विसमूहित**  
*विसमूहित 694.32 ⇌*  
**विसमूहित करना**  
*विसमूहित करना 694.26 ⇌*  
**विसर्ग**  
विलग्नन 1011.1  
*विसर्ग 410.12 ⇌*  
**विसर्ग चिह्न**  
*विसर्ग चिह्न 410.13 ⇌*  
**विसर्गी**  
परिस्थानी 1003.6  
**विसर्जक**  
जलावतारक 1080.44  
**विसर्जन**  
कार्य समापन 522.2  
जल अवतारण 1080.9  
डिस्चार्ज 101.9  
प्रवाहन 1041.3  
विघटन 544.1  
विलय 21.26  
विसमूहन 694.24  
*विसर्जन 1054.5 ⇌*  
सभा समापन 694.23  
**विसर्जन समारोह**  
समापन समारोह सूची 522.8  
**विसर्जित**  
प्रेषित 1054.14  
विघटित 544.17  
विलयित 21.41  
विसमूहित 694.32  
*विसर्जित 1054.26 ⇌*  
समापित (सभा) 694.30  
**विसर्जित करना**  
जलावतारण करना 1080.37  
विसमूहित करना 694.26  
*विसर्जित करना 1054.13 ⇌*  
**विसर्पण**  
घुपघाप पलायन 916.2  
रिंग 1084.18  
व्याप्ति 981.5  
सरकन 1084.22  
सीमातिक्रमण 1001.27  
**विसर्पित**  
घुपघाप पलायित 916.20  
**विसर्पी**  
विसारशील 979.18  
रेंगने वाला 1084.48  
सरकाने वाला 1084.52  
**विसार**  
विस्फार 119.3

**विसारक**  
प्रसारक 979.19  
विस्तारक 981.11  
**विसारित**  
आघात वर्धित 545.29  
**विसारी**  
प्रसारक 979.19  
विसार  
आघातवर्ध 545.31  
**विसाल**  
प्रिय संयोग 389.3  
मिलन 389.1  
रति संयोग 237.10  
**विसिंधन**  
जल निकास 23.1  
**विसिंधी**  
कमल ककड़ी 189.11  
**विसुरणा**  
वितागुमृति 353.3  
**विसुरा**  
शोक 383.1  
**विसृष्ट**  
विसर्जित 1054.26  
**विसृष्टा**  
रथेता 527.14  
**विसृष्टि**  
विघटन 544.1  
**विसंन्यीकरण**  
*विसंन्यीकरण 906.8 ⇌*  
**विसंन्यीकरण (दे.)**  
विसमूहन 694.24  
**विसंन्यीकरण करना**  
*विसंन्यीकरण करना 906.11 ⇌*  
**विसंन्यीकृत**  
*विसंन्यीकृत 906.16 ⇌*  
**विसोड**  
सहा [सही] 872.17  
**विस्तार**  
राशि 686.2  
**विस्तारण**  
विघ्न 592.3  
**विस्तारणी**  
स्ट्रैचर 1071.25  
**विस्तारित**  
बिछा [बिछी] 592.16  
**विस्तार**  
अनंत स्थान 33.3  
आयतन 986.3  
क्षेत्रफल 986.1  
झाड 111.16  
विवरण 449.8  
विष्णु 768.1  
*विस्तार 981.2 ⇌*  
विस्तीर्णता 981.1  
व्यास 972.12  
सविस्तार विवरण 449.11  
**विस्तार (दे.)**  
प्रसार 979.3



विस्तारक  
प्रसारक 979.19  
विस्तारक 981.11 ⇨  
विस्तार करना  
प्रसार करना 979.11  
विस्तार करना 981.7 ⇨  
विस्तारता  
विवरणपूर्वक 449.32  
विस्तारना  
प्रसार करना 979.11  
विस्तार करना 981.7  
विस्तारपूर्ण  
असंक्षिप्त 978.7  
विस्तारपूर्वक  
विवरणपूर्वक 449.32  
विस्तारयुक्त  
सविस्तार विवृत 449.29  
विस्तार से कहना  
सविस्तार विवरण करना 449.21  
विस्तारहीन  
संकीर्ण 980.29  
विस्तीर्ण  
अत्यधिक 944.7  
विस्तीर्ण 981.10 ⇨  
विस्तीर्ण (शे.)  
प्रसारित 979.17  
बृहत् 979.15  
विस्तीर्णता  
विस्तीर्णता 981.1 ⇨  
विस्तीर्ण मार्ग  
चौड़ी सड़क 1063.35  
विस्तीर्ण होना  
विस्तीर्ण होना 981.6 ⇨  
विस्तृत  
अत्यधिक 944.7  
प्रसारित 979.17  
विद्या [विद्यी] 592.16  
विवरणात्मक 449.28  
विस्तीर्ण 981.10  
विस्तृत करना  
प्रसार करना 979.11  
विस्तृत काव्य  
महाकाव्य 451.12  
विस्तृत ज्ञान पहचान  
बहु परिचितता 704.11  
विस्तृतता  
विस्तीर्णता 981.1  
विस्तृत परिवार इकाई  
कुटुंब 726.7  
विस्तृत भाल  
चौड़ा मस्तक 158.3  
विस्थापन  
विस्थापन 1036.3 ⇨  
विस्थापक  
विस्थापक 1036.14 ⇨  
विस्थापन  
उच्छेदन 1017.1  
उन्मूलन 548.28

विस्थापन 1036.4 ⇨  
विस्थापना  
बंदकली 1036.6  
विस्थापना 1036.2 ⇨  
विस्थापित  
विस्थापित 1036.13 ⇨  
विस्थापित जन 1036.5  
विस्थापित अंगः शाल्य कर्महीन  
अंग पुनस्थापना 153.9  
विस्थापित करना  
विस्थापित करना 1036.12 ⇨  
विस्थापित जन  
विस्थापित जन 1036.5 ⇨  
विस्थापित होना  
विस्थापित होना 1036.11 ⇨  
विस्थाप  
स्पंद 1039.1  
विस्थापन  
कंपन 1039.11  
भूस्थापन 9.16  
स्पंदन 1039.2  
स्वर स्पंदन 485.15  
विस्कार  
विस्कार 119.3 ⇨  
विस्कारक  
विस्कारक 119.13 ⇨  
विस्कारण  
विस्कारण 119.5 ⇨  
विस्कारित  
विस्कारित 119.12 ⇨  
विस्कारित करना  
विस्कारित करना 119.7 ⇨  
विस्कारितता  
विस्कारितता 119.15 ⇨  
विस्कीत  
फूला [फूली] 988.13  
विस्कीति  
फुलाव 988.4  
विस्फुटन  
प्रकटन 822.7  
प्रस्फुटन 119.1  
विशद 822.3  
विस्फुरण  
अग स्फुरण 1039.7  
विशदन 822.3  
विस्फुरण 119.4 ⇨  
विस्फुरणशील  
स्फुरणशील 1039.19  
विस्फुरित  
ऊर्जायित 101.14  
स्फुरणशील 1039.19  
विस्फुरिणे  
स्फूर्क 101.11  
विस्फुरिणन  
विहारण 107.2  
विस्फुत  
विस्फारित 119.12

विस्फोट  
अति क्रोध 373.2  
क्रांति विस्फोट 903.8  
धमाका 296.21  
फूँडा 167.2  
रोग तीव्रता 163.10  
विद्रोह 903.3  
विस्फोट 544.8 ⇨  
विस्फोटक  
विस्फोटक 544.11 ⇨  
विस्फोट करना  
विस्फोट करना 544.10 ⇨  
विस्फोट खनन  
विस्फोट खनन 1018.5 ⇨  
विस्फोट खनन करना  
बारूद से खोदना 1018.14  
विस्फोट खानिक  
विस्फोट खानिक 1018.9 ⇨  
विस्फोटन  
विस्फोटन 544.9 ⇨  
विस्फोट प्रणोदन  
विस्फोट प्रणोदन 1051.5 ⇨  
विस्फोट प्रणोदित करना  
विस्फोट प्रणोदित करना 1051.21 ⇨  
विस्फोटशील  
उत्तेजनशील 371.11  
विस्फोटशील 544.23 ⇨  
विस्फयंकर  
आश्चर्यजनक 379.9  
विलक्षण 312.16  
विस्मय  
आश्चर्य 379.1  
जिज्ञासा 305.22  
दुबिधा 501.1  
विस्मय (अद्भुत)  
स्थायी भाव सूची 358.4  
विस्मयकर  
चमत्कारी 379.10  
विस्मयकारी  
आश्चर्यजनक 379.9  
'प्रज्ञासाजनक 305.43  
नाटकीय 486.19  
विस्मयजनक  
आश्चर्यजनक 379.9  
नाटकीय 486.19  
विलक्षण 312.16  
विस्मयजनकता  
विलक्षणता 312.3  
विस्मयपूर्णता  
नाटकीयता 486.2  
विस्मयादि बोधक चिह्न  
विस्मयादि बोधक चिह्न 425.36 ⇨  
विस्मरण  
तल्लीनता 331.6  
विस्मरण 357.5 ⇨  
विस्मरण करना  
विस्मरण करना 357.7 ⇨

विस्मरणशील  
विस्मरणशील 357.13 ⇨  
विस्मित  
आश्चर्यित 379.8  
विस्मितता  
आश्चर्यिता 379.2  
विस्मिति  
आश्चर्य 379.1  
विस्मृत  
अस्मृत 357.9  
तल्लीन 331.14  
विस्मृत 357.12 ⇨  
विस्मृतः अविज्ञान  
अविज्ञान 356.11  
विस्मृति  
विस्मृति 357.4 ⇨  
विस्मृतियुक्त  
विस्मरणशील 357.13  
विस्मसन  
पतन 1031.1  
विस्मसी  
सरकने वाला 1084.51  
विस्मक चर्म  
मिक 582.19  
विस्मयित  
अति 1032.26  
विस्मता  
विस्मता 774.87 ⇨  
विस्वा  
वसा 132.4  
विस्वाव  
टपक 1032.6  
आव 1032.1  
विस्वावक  
आवक 1032.28  
विस्वावण  
आसवन 82.1  
आवण 83.4  
विस्वावी  
आवक 1032.28  
आवशील 1032.27  
विहंग  
पक्षी 126.1  
बाण 926.18  
मेघ 55.1  
वायुवाहित 1041.10  
विहंगक  
वायुवाहित 1041.10  
विहंगम  
नम यात्री 1087.20  
पक्षी 128.1  
वायुवाहित 1041.10  
सूर्य 8.1  
विहंगमिका  
काँवर 1071.20  
विहंगाराति  
गिद्ध 126.26

## विहंगावलोकन

**विहंगावलोकन**  
 सिंहावलोकन 330 10  
**विहंगिका**  
 कौबर 1071.20  
 छोटा पक्षी 126.3  
**विहंगिनी**  
 मादा पक्षी 126.2  
**विहङ्कन**  
 भंजन 539 1  
**विहङ्कना**  
 भंजित करना 539 8  
**विहंसना**  
 मुस्कुराना 384 11  
 हंसना 384 7  
**विहग**  
 पक्षी 126.1  
 बाण 926.16  
 वायुवाहित 1041 10  
**विहगा**  
 मादा पक्षी 126 2  
**विहगी**  
 मादा पक्षी 126.2  
**विहगेन्धर**  
 गरुड 777.15  
**विहत**  
 आहत 168.6  
 जैन मंदिर 745 37  
 प्रतिरोधित 915.10  
 प्रहारित 918.30  
**विहरण**  
 घटान कर्म 954.6  
 चेहलरुदमी 1084 7  
 मनोरंजन कर्म 469 2  
 विचरण 1085 1  
**विहरना**  
 विलास करना 363.12  
**विहर्ता**  
 चोर 864 3  
 विचरण कर्ता 1085 2  
**विहर्ष**  
 रोमांच 382.6  
**विहान**  
 आगामी कल 46 14  
 प्रभात काल 47 4  
**विहायस**  
 पक्षी 126 1  
 वायु 85.1  
**विहार**  
 आश्रम 745.2  
 इंद्र ध्वज 773.9  
 उपासनालय 745.13  
 ऐश्वर्य भवन 602 12  
 क्रीडा 469.4  
 क्रीडा उपवन 12 14  
 क्रीडा स्थल 482.1  
 चेहलरुदमी 1084 7  
 तपोवन 745 6  
 बौद्ध मंदिर 745 39

बौद्ध मठ 745 12  
 मनोरंजन 469.1  
 महल 602.32  
 महल्ला 619 6  
 विचरण 1085.1  
 विलास 363.6  
**विहार करना**  
 आमोद यात्रा करना 1085.11  
**विहार गृह**  
 क्रीडागृह 482 2  
**विहार प्रबंधक**  
 मठ मंदिर प्रबंधक 744.3  
**विहारप्रियता**  
 क्रीडाप्रियता 469.5  
**विहारी**  
 आनंदशील 382.19  
 पर्यटनशील 1090.45  
 विचरण कर्ता 1085.2  
 विनोदी 385 13  
 विलासी 383.20  
 विश्राम प्रेमी 490.12  
**विहारी [विहारिणी]**  
 क्रीडाप्रिय 469 16  
**विहास**  
 मुस्कुराहट 384.5  
**विहिच**  
 अपकार कर्ता 831.14  
 आक्रामक 914.19  
 हिंसक 251.31  
**विहिचला**  
 आक्रामकता 914 4  
**विहित**  
 आचरणीय 808 13  
 आज्ञापित 347.14  
 कार्यान्वित 505.27  
 धर्म सम्मत 735 12  
 निदेशित 347.16  
 नियत 68 16  
 नियमानुकूल 879.18  
 निर्धारित 328 14  
 नैतिकतापूर्ण 815.5  
 पारंपरिक 795 13  
 विधायित 878.31  
 विवक्षित 426.32  
 वैध 878.26  
 वैध 716 19  
 सगत 438.6  
 संविधान सम्मत 878 29  
**विहिततः**  
 विधितः 878 32  
**विहितता**  
 नियतता 68.8  
 नियमानुकूलता 879 9  
 वैधता 878.14  
 संगतता 438.1  
 सवैधानिकता 878.17  
**विहित नियम**  
 विधि (क्रानून) 878.1

**विहित संपूर्ति**  
 संकल्प पूर्ति 500.3  
**विहिताचार**  
 शिष्टता 733.7  
**विहीन**  
 अधम 840.4  
 अप्रतिष्ठित 850.5  
 अल्प 942.13  
 असफल 513 4  
 नगण्य 853 10  
 रहित 1007.3  
 -विहीन [-विहीना]  
 रहित प्रत्यय सूची 1007 6  
**विहीनतः**  
 रहिततः 1007.4  
**विहीनता**  
 अकुलीनता 728.9  
 नगण्यता 853.3  
 रहितता 1007.1  
**विहीन होना**  
 रहित होना 1007.2  
**विहेठ**  
 अपकार 831.4  
**विहेठन**  
 उत्पीड़न 391.10  
**विह्वल**  
 उद्दिग् 77.13  
 कष्टग्रस्त 392.21  
 कातर 380.11  
 दुःखी 391.24  
 भयभीत 395.19  
 भाव विभोर 358.28  
 भ्रष्टगी 302.10  
**विह्वलता**  
 उद्दिग्ता 377.4  
 दुःखग्रस्तता 391.2  
 भाव विभोरता 358.14  
**वी उच्चारण**  
 दल उच्चारण 1081 15  
**वीक (अँ)**  
 सप्ताह 46 1  
**वीकली (अँ)**  
 साप्ताहिक 71 16  
**वीक्षक**  
 अवलोकक 284 48  
 निरीक्षक 284 17  
**वीक्षण**  
 अवलोकन 284 1  
 नेत्र 141.1  
**वीक्षणाय**  
 दर्शनीय 400.13  
**वीक्षा**  
 अवलोकन 284.1  
 तथ्यान्वेषण 336.1  
 दृष्टि 282 1  
**वीक्षित्र (प्र)**  
 व्यूअर 283 10

**वीधि**  
 अंतराल 33.9  
 तरंग 1040.1  
 बेला तट 25.21  
 लहर 1040 17  
 सूच्य स्थान 33 4  
 समुद्री लहर 1040.18  
**वीधी**  
 समुद्री लहर 1040 18  
**बीज**  
 बीज 112 1  
**बीजन**  
 चकोर 126.33  
 घामर 85.28  
 पंखा 85.27  
 लोघ्न 14.24  
**बीजा (अँ)**  
 देश प्रवेशानुमति 1094 9  
**बीटक**  
 पान बीका 213.18  
 बीका 674.10  
**बीटा**  
 गुल्ली 597.4  
**बीटिका**  
 चुंडी 977.5  
 बीकी 674.11  
 बीकी 213.7  
**बीटो**  
 बीटो 329.10 ⇌  
 बीटो (अँ)  
 बीटो 329.10  
**बीण**  
 बीणा 461 77  
**बीणा**  
 बीणा 461.77 ⇌  
**बीणा गणकी**  
 गायक दल. मुखिया 460.20  
**बीणा ध्वनि**  
 बीणा ध्वनि 296.14 ⇌  
**बीणा बावन**  
 मिजराब 461.100  
**बीणा बादिनी**  
 सरस्वती 775.8  
**बीत**  
 अतीत 63.8  
 अनातुर 497.5  
 गत 1091.8  
 घटित 75.11  
 निवृत्त 503.9  
 पहना [पहनी] 589.24  
 वेष्टित 592.17  
 व्यतीत 74 3  
**बीतकाम**  
 विरक्त 366.6  
 संन्यासी 790.11  
**बीतकामता**  
 विरक्ति 366.2

वीतचित  
निश्चित 378.8  
वीतवैभ  
दर्पहीन 859.8  
वीतभव  
विष्णु 768.1  
वीतमत्सर  
ईश्याहीन 709.7  
वीतमल  
पापनष्ट 813.10  
पापहीन 813.9  
वीतमोह  
विरक्त 366.6  
वीतराग  
इच्छाहीन 360.9  
कामहीन 237.17  
विरक्त 366.6  
वीतरागी  
विरक्त 366.6  
संन्यासी 790.11  
वीतद्वेष  
अग्नि 108.1  
वीति  
वेग 1042.9  
वीथि  
गलियारा 615.8  
चित्रशाला 669.12  
पंक्ति 691.4  
वीथिका  
गलियारा 615.8  
चित्रशाला 669.12  
छज्जा 611.27  
मिति चित्र 404.7  
मध्य वीथिका 1063.52  
सड़क 1063.33  
वीथी  
चित्रशाला 669.12  
दीड मार्ग 1063.26  
सड़क 1063.33  
वीनस (बी)  
शुक्र ग्रह 7.9  
वीभक्त  
घृणित 370.6  
विकराल 154.23  
वीभक्तता  
विकरालता 154.8  
वीर्नस होम (बी)  
नारी निकेतन 601.12  
वीया  
बीज 112.1  
वीरधर  
धर्म कवच 921.3  
मोर 126.68  
वीर  
मार्ग 723.4  
योद्धा 934.15  
वीर 396.6 ⇌  
वीर पुरुष 396.2

साहसी 394.13  
सैनिक 934.1  
वीर काव्य  
वीर काव्य 451.14 ⇌  
वीर क्रीडा  
भाडा: सैनिक 934.5  
वीर केशरी  
महावीर 396.8  
वीरगति  
युद्ध मृत्यु 249.7  
वीरगति पाना  
युद्ध में मरना 249.20  
वीरगति प्राप्त  
युद्ध मृत 249.26  
वीर गाथा  
प्रशंसा गाथा 841.7  
मरसिया 452.24  
वीर काव्य 451.14  
वीर गीत  
आल्हा 457.29  
वीर चक्र  
नासीय सेना वीरता चक्रसूची 857.12  
वीरचक्रम्बर  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1  
वीरचर्या  
वीरता 396.1  
वीर जननी  
वीर: माता 717.9  
वीरण  
गौडर घास मूल 112.15  
वीरण मूल  
गौडर घास मूल 112.15  
वीरता  
वीरता 396.1 ⇌  
वीर रस 455.18  
साहस 394.1  
वीरता चक्र  
वीरता चक्र 857.11 ⇌  
वीरतापूर्ण  
वीरोचित 396.7  
वीरतापूर्वक  
वीरोचिततः 396.10  
वीरता वर्णन  
वीर रस 455.18  
वीरता विषयक  
वीरता विषयक 396.5 ⇌  
वीर पुरुष  
वीर पुरुष 396.2 ⇌  
वीर प्रसू  
वीर: माता 717.9  
वीर बहूटी  
वीर बहूटी 122.32  
वीरबाहु  
विष्णु 768.1  
वीरभद्र  
अश्वमेध: घोडा 754.14  
गौडर घास मूल 112.15

मंगल ग्रह 7.7  
वीरमन्त्र  
डीगबाज़ 842.15  
वीर: माता  
वीर: माता 717.9 ⇌  
वीर योद्धा  
महायोद्धा 934.20  
वीर रस  
नवरस सूची 455.11  
वीर रस 455.18 ⇌  
वीरवती  
पतिपुत्रवती स्त्री 236.9  
वीरवार  
बृहस्पतिवार 46.7  
वीरवाह  
रथ 1071.46  
वीर वृक्ष  
साल 13.26  
वीरव्रत  
अविचल 500.15  
दृढ़प्रतिज्ञ 339.45  
वीर शय्या  
बाण शय्या 594.4  
वीर शैव संप्रदाय  
वीर शैव संप्रदाय 737.60 ⇌  
वीरश्रेष्ठ  
महावीर 396.8  
वीरसू  
वीर: माता 717.9  
वीरसेन  
दानव सूची 783.13  
वीर स्त्री  
वीर स्त्री 396.3 ⇌  
वीर स्त्री: उपमान  
वीर स्त्री: उपमान 396.4 ⇌  
वीरहा  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1  
वीरांगना  
वीर स्त्री 396.3  
वीरा  
पतिपुत्रवती स्त्री 236.9  
पत्नी 803.6  
मद्य 209.1  
माता 717.7  
मुरा 274.24  
वीर स्त्री 396.3  
शीतलम 13.22  
वीरान  
डहा [डही] 539.17  
नष्ट 531.7  
निर्जन 617.16  
वनस्पतिहीन 111.32  
वीराना  
एकांत स्थान 697.4  
निर्जन स्थान 617.7  
वन 12.1

वीरानी  
नास 531.1  
निर्जनता 617.6  
वीरानुचित  
कापुरुषतापूर्ण 395.28  
वीरासन  
पहरा चौकी 908.6  
वीरध  
झाड़ 111.16  
पीया 111.14  
प्रशाखा 114.11  
शाखा 114.10  
वीरघ्न  
महायोद्धा 934.20  
नह:वीर 396.8  
वीरश  
महावीर 396.8  
वीरश्वर  
महायोद्धा 934.20  
महावीर 396.8  
शिव 767.1  
वीरोचित  
वीरोचित 396.7 ⇌  
वीरोचिततः  
वीरोचिततः 396.10 ⇌  
वीर्य  
ईश्वर: तिमूति सूची 764.4  
ऊर्जा 101.1  
बीज 112.1  
वीरता 396.1  
वीर्य 130.10 ⇌  
हाक्ति 487.1  
हास्यरिक्त बल 160.2  
साहस 394.1  
वीर्य जीव  
शुक्राणु 130.11  
वीर्य प्रमेह  
प्रमेह 163.33  
वीर्यवता  
पुंसकता 238.2  
वीर्यवान  
पुंसक 238.13  
बलिष्ठ 160.10  
वीर्यशाली  
पुंसक 238.13  
वीर्यहीन  
अबलिष्ठ 159.12  
नपुंसक 238.16  
वीर्यहीनता  
अबलिष्ठता 159.3  
वीर्य  
नाग स्त्री सूची 778.24  
वीर्याणु  
शुक्राणु 130.11  
वीर्यीय  
वीर्यीय 130.15 ⇌  
वीर्यधिक  
कौबर यात्री 1089.6

## वृक्ष

**वृक्ष**  
अपराध: घटना 861.2  
**वृष**  
नमाज: वृष 751.16  
हस्त प्रभालन 220.2  
**वृल (अ)**  
ऊन 568.9  
**वृत**  
घड़ीची 596.11  
उठल 114.1  
**वृताकी**  
बैंगन 189.29  
**वृब**  
अरब 948.79  
गुच्छा 686.17  
दल 691.1  
समूह 690.1  
**वृब गान**  
समूह गायन 460.33  
**वृब गायक**  
समूह गायक 460.34  
**वृब गायन**  
समूह गायन 460.33  
**वृवा**  
तुलसी 13.9  
राक्षस स्त्री सूची 784.23  
राधा 771.83  
**वृवाक**  
परजीवी वनस्पति 111.6  
**वृवारक**  
देवता 772.1  
नायक 467.5  
महान जन 839.2  
**वृवावन**  
तुलसी घौरा 551.24  
**वृवावन विहारी**  
कृष्ण 771.1  
**वृवावनेश्वरी**  
राधा 771.83  
**वृवीय**  
सामूहिक 690.13  
**वृक**  
असुर सूची 783.8  
भेकिया 127.77  
**वृकवेवी**  
देवकी 771.61  
**वृकारि**  
कुता 127.71  
**वृकी**  
मादा गीदक 127.76  
**वृकोबर**  
भीम 771.76  
**वृक**  
वृक 148.8 ⇌  
**वृकका**  
हृदय 146.5  
**वृकिक**  
वृक 148.8

**वृकवीय**  
वृकवीय 148.16 ⇌  
**वृक**  
वंशावली 727.13  
वृक 111.18 ⇌  
**वृकक**  
छोटा वृक 111.20  
**वृक कुंज**  
वृक कुंज 12.18 ⇌  
**वृकचर**  
बंदर 127.86  
**वृक:** छाल  
छाल 116.5  
**वृक छाल**  
वल्कल परिधान 583.7  
**वृक वृथ**  
वृक निर्यात 84.8  
**वृक निर्यात**  
गोंद 1012.7  
**वृक निर्यात 84.8 ⇌**  
**वृक निर्यातक**  
पाछी 83.10  
**वृक निर्यातन करना**  
वृक निर्यातन करना 83.13 ⇌  
**वृक प्रतिष्ठा**  
वृक रोपण 12.29  
**वृकराज**  
पीपल 13.14  
बरगद 13.16  
**वृकराहा**  
परजीवी वनस्पति 111.6  
**वृक रोपण**  
वृक रोपण 12.29 ⇌  
**वृक वीथी**  
कुंज गली 1063.20  
**वृक शिखर**  
वृक शिखर 114.14 ⇌  
**वृक स्नेह**  
गोंद 1012.7  
**वृकाहीन मैदान**  
वृकाहीन मैदान 11.3 ⇌  
**वृकान्त**  
इमली 277.8  
**वृकापुर्वक योग**  
घांसठ कला सूची 397.4  
**वृकाका**  
बनमानुस 127.91  
**वृक**  
कार्यान्वित 505.27  
काव्य पद 452.46  
घटना 75.1  
छंद 452.1  
नरोका [नरोकी] 975.30  
वर्तुलाकार 978.16  
वार्षिक छंद 452.4  
वृक (चक्र) 972.1  
वृतांत 449.14  
व्यतीत 74.3

समाचार 440.1  
**वृक (चक्र)**  
वृक (चक्र) 972.1 ⇌  
**वृक:** अधिकतम चौकाई  
व्यास 972.12  
**वृक:** केंद्र बिंदु  
केंद्र बिंदु 971.1  
**वृक:** चाप  
चाप 972.9  
**वृकचित्र**  
वृकचित्र 472.10 ⇌  
**वृक परिधि**  
परिधि 972.4  
**वृक पूर्ति**  
काव्य समस्या पूर्ति 694.13  
**वृक लेख**  
वृतांत 449.14  
**वृक देव**  
धनुर्वेद 740.38  
**वृक:** व्यास  
व्यास 972.12  
**वृकसाबी**  
प्रथा उच्चलक 795.10  
**वृक शीमा**  
परिधि 972.4  
**वृतांत**  
अध्याय 447.2  
इतिहास 76.1  
घटना 75.1  
जीवनी 450.20  
धर्म 735.1  
वर्णन 449.1  
विषय 437.7  
**वृतांत 449.14 ⇌**  
समाचार 440.1  
**वृतांत (बे.)**  
विवरण 449.8  
**वृताकार**  
वृताकार 972.15 ⇌  
**वृतार्थ**  
अर्थ परिधि 972.8  
**वृति**  
अस्तित्व 246.1  
आचरण 808.1  
आधारित वस्तु 1019.2  
कला शैली 397.14  
कार्य 506.1  
चित्त अवस्था 355.1  
जीवन स्तर 625.1  
तुक 452.49  
परिधि 972.4  
परिस्थिति 69.5  
प्रचलन 514.7  
भाव 358.1  
**वृति 641.17 ⇌**  
शब्द शक्ति 426.2  
स्वभाव 836.4

**वृति**  
वृति प्राप्ता 641.32  
**वृतिकर**  
वृति दाता 641.31  
**वृतिका दाता**  
वृति दाता 641.31  
**वृतिकार**  
व्याख्याता 427.32  
**वृति दाता**  
नियुक्त कर्ता 653.33  
वृति दाता 641.31 ⇌  
**वृति देना**  
वृति देना 641.21 ⇌  
**वृतिनी**  
डायरी 41.5  
**वृति प्राप्ता**  
वृति प्राप्ता 641.32 ⇌  
**वृति भोगी**  
वृति प्राप्ता 641.32  
**वृतीय**  
परिधीय 972.16  
**वृत्तुपाय**  
व्यवसाय 650.9  
**वृत्र**  
असुर सूची 783.8  
चक्र 1077.31  
वृक (चक्र) 972.1  
रानु 706.2  
**वृत्र शंकु**  
सुध्याकार स्तंभ 607.10  
**वृत्रारि**  
इंद्र 773.5  
**वृत्रासुर:** जनक  
त्वष्टा 773.30  
**वृत्रासुर:** माता  
दनायु 787.14  
**वृथा**  
अनुपयोगी 525.8  
असंगत 439.5  
असफलतः 513.5  
प्रयोजनहीन 509.3  
**वृथा कर्म**  
व्यर्थ कार्य 506.3  
**वृथा दाद**  
असत्य कथन 821.5  
**वृथ**  
अति अनुमदी 303.18  
अधिक 944.5  
ऋषि 789.2  
बृहत् 979.15  
वर्धित 979.20  
वृथ पुरुष 232.4  
**वृथ [वृथा]**  
वृथ [वृथा] 232.10 ⇌  
**वृथ अवस्था**  
जीवन: चार अवस्था सूची 229.17  
वृथता 232.2

**वृद्धक**  
 वृद्ध [वृद्धा] 232.10  
**वृद्ध जन**  
 गुरुजन समष्टि 722.1  
 वृद्ध जन 232.3 ⇌  
**वृद्धता**  
 अंतिम अवस्था 995.3  
 विलसां 774.87  
 वृद्धता 232.2 ⇌  
**वृद्ध पुरुष**  
 वृद्ध पुरुष 232.4 ⇌  
**वृद्ध प्रधान**  
 लकड़ दादा 722.9  
**वृद्ध ब्राह्मण**  
 कंचुकी 487.14  
**वृद्ध भवा**  
 इन्द्र 773.5  
**वृद्ध भावक**  
 कपालधारी संन्यासी 780.13  
**वृद्ध स्त्री**  
 वृद्ध स्त्री 232.5 ⇌  
**वृद्ध होना**  
 वृद्ध होना 232.7 ⇌  
**वृद्धा**  
 मठाधीन स्त्री 744.2  
 मंदर 744.30  
 रज निवृत्ता 130.14  
 वृद्ध स्त्री 232.5  
**वृद्धात्मा**  
 विष्णु 788.1  
**वृद्धात्मन**  
 संन्यास आश्रम 233.6  
**वृद्धि**  
 उन्नति 534.1  
 प्रगति 1095.1  
 वृद्धि 979.4 ⇌  
 शोष 186.8  
 सफलता 512.1  
**वृद्धिक**  
 ध्याजयुक्त 633.37  
**वृद्धिकर**  
 वर्षक 979.22  
**वृद्धिकारी**  
 वर्षक 979.22  
**वृद्धि क्रम**  
 विकास क्रम 991.12  
**वृद्धिजीवी**  
 व्याजजीवी 633.33  
**वृद्धिद**  
 उन्नतिकारी 534.12  
**वृद्धिशाली**  
 वर्धित 979.20  
**वृद्धिशाल**  
 वृद्धिशाल 979.21 ⇌  
**वृद्धि होना**  
 वर्धित होना 979.12  
**वृद्धिक**  
 केकदा 124.14

विष्णु 122.31  
 मार्गशीर्ष 43.15  
**वृद्धिक राशि**  
 राशि सूची 4.8  
**वृष**  
 बलिष्ठ पुरुष 160.4  
 बैल 127.13  
 मुख्य पासा 479.22  
 संत आसन 595.12  
 सौंठ 127.12  
**वृषकर्मा**  
 विश्वकर्मा 773.44  
 विष्णु 768.1  
**वृषकेतु**  
 शिव 767.1  
**वृषण**  
 इन्द्र 773.5  
 सौंठ 127.12  
**वृषधर**  
 शिव 767.1  
**वृषपति**  
 नपुंसक 238.18  
 शिव 767.1  
**वृषपर्वा**  
 दानव सूची 783.13  
 विष्णु 768.1  
**वृषभ**  
 असुर सूची 783.8  
 उत्तमता: उपमान सूची 313.4  
 ऋषभ देव 792.3  
 कान: छिद्र 142.2  
 बैल 127.13  
 शिव: वाहन 767.13  
 सौंठ 127.12  
**वृषभकेतु**  
 शिव 767.1  
**वृषभ देव**  
 ऋषभ देव 792.3  
**वृषभ: माता**  
 सुरभि 787.27  
**वृषभ यान**  
 बैलगाड़ी 1071.42  
**वृषभ राज**  
 नंदी 767.14  
**वृषभवाहन**  
 शिव 767.1  
**वृषभानुजा**  
 राधा 771.83  
**वृषभन्यु**  
 साहसी 394.13  
**वृष राशि**  
 राशि सूची 4.8  
**वृषल**  
 जाति निर्वासित 870.28  
 दुरधरित्र 811.5  
 धर्मभ्युत् 742.32  
 पापी 812.12  
 बैल 127.13

रुद्र 731.28  
**वृषलांछन**  
 शिव 767.1  
**वृषली**  
 रुद्र स्त्री 731.29  
**वृषांक**  
 नपुंसक 238.18  
 मोर 126.68  
 शिव 767.1  
 हिजका 238.5  
**वृषांकज**  
 शिव: डमरू 767.16  
**वृषांतक**  
 विष्णु 768.1  
**वृषाकपायी**  
 उषा 774.14  
 पार्वती 776.9  
 लक्ष्मी 775.1  
 राची 774.89  
 स्वाहा 774.104  
**वृषाकपि**  
 रुद्र सूची 767.36  
**वृषादित्य**  
 मित्र 773.42  
**वृषी**  
 संत: आसन 595.12  
**वृष्टि**  
 वर्षा 54.5  
**वृष्टिक**  
 वर्षयिता 54.22  
**वृष्टिकर**  
 वर्षद 54.23  
**वृष्टि: काल**  
 उर्षा काल 54.1  
**वृष्टिजीवन**  
 वर्षा सिधित 548.56  
**वृष्टि पात**  
 वर्षा 54.5  
**वृष्टिमान**  
 वर्षा मापी 958.41  
**वृष्टिहीन**  
 वर्षाहीन 54.20  
**वृष्णि**  
 कृष्ण 771.1  
 प्रकाश किरण 288.1  
 वायु 85.1  
 शिव 767.1  
 सौंठ 127.12  
**वृष्णि (वेद)**  
 मरुत: माता 781.3  
**वृष्णिपाल**  
 गोप 771.31  
 भेड़ बकरी पालक 555.2  
**वृष्टकथा**  
 वृष्टकथा 450.12  
**वृष्ट् कोण**  
 वृष्ट् कोण 970.4

**वृष्ट्भानु**  
 चीता 127.53  
**वृष्ट्द्रथ**  
 महाय्येन्द्रा 934.20  
 यज्ञ भांड 753.22  
**वृष्ट्द्वर्ण**  
 सोनामाखी 92.11  
**वृष्ट्मखी**  
 नखी 274.23  
**वृष्ट्मल**  
 भुजा 149.5  
**वृष्ट्स्पति**  
 वृष्ट्स्पति 789.22  
 वृष्ट्स्पति ग्रह 7.6  
 वृष्ट्स्पतिवार 46.7  
**वृष्ट्स्पतिवार**  
 वृष्ट्स्पतिवार 46.7  
**वृष्ट्कटेश्वर**  
 विष्णु 768.1  
**वे**  
 वह 316.14  
 वे 316.15 ⇌  
**वेअपहाउस (अँ)**  
 मंडार घर 670.5  
**वेगं त्रिज**  
 वेगं त्रिज 962.16 ⇌  
**वेगं त्रिज (अँ)**  
 वेगं त्रिज 962.16  
**वेगं मशीन**  
 वेगं मशीन 962.17 ⇌  
**वेगं मशीन (अँ)**  
 वेगं मशीन 962.17  
**वेक (अँ)**  
 अनुतरंग 867.8  
**वैशक**  
 अवलोकक 284.48  
**वैक्षण**  
 अवलोकन 284.1  
 इनविजिलेशन 322.18  
**वैशा**  
 अवलोकन 284.1  
**वेग**  
 गति वेग माप 958.25  
 धारा 21.14  
 प्रबलता 487.6  
 प्रवाह 1041.1  
 भाव विभोरता 358.14  
 वेग 1042.9 ⇌  
 संवेग 1042.10  
**वेग अवरोधक**  
 वेग अवरोधक 1043.4 ⇌  
**वेग अवरोधन**  
 वेग अवरोधन 1043.3 ⇌  
**वेग कम करना**  
 वेग कम करना 1043.14 ⇌  
**वेग कम होना**  
 वेग कम होना 1043.13 ⇌

## वेग क्षय

वेग क्षय  
वेग रोध 1043.7  
वेग नियंत्रक  
वेग नियामक 1043.16  
वेग नियमन  
वेग नियमन 1043.1 ⇌  
वेग नियामक  
वेग नियामक 1043.18 ⇌  
वेग बचकना  
वेग बचकना 1043.10  
वेगपूर्वक  
शीघ्रतः 496.13  
वेग बचकना  
वेग बचकना 1043.10 ⇌  
वेग बचाना  
वेग बचाना 1043.11 ⇌  
वेग माप  
गति वेग माप 958.25  
वेग मापी  
वेग मापी 958.28 ⇌  
वेग रुद्ध  
वेग रुद्ध 1043.19 ⇌  
वेग रोध  
वेग रोध 1043.7 ⇌  
वेग रोधक  
वेग रोधक 1043.9 ⇌  
वेग रोधन  
वेग रोधन 1043.8 ⇌  
वेग रोधन (वे.)  
विमंदन 1045.5  
वेग रोधी  
वेग रोधक 1043.9  
वेगबत्ता  
द्रुत गामिता 1044.4  
शीघ्रता 496.1  
वेग वर्धक  
वेग वर्धक 1043.18 ⇌  
वेग वर्धन  
वेग वर्धन 1043.6 ⇌  
वेग वर्धित  
वेग वर्धित 1043.17 ⇌  
वेगवान  
द्रुत 1044.6  
द्रुतगामी [द्रुतगामिनी] 1044.7  
वेगवान [वेगवती]  
दुर्निवार्य 919.10  
प्रबल 487.24  
वेगवाही  
द्रुतगामी [द्रुतगामिनी] 1044.7  
वेग वृद्धि  
वेग वृद्धि 1043.5 ⇌  
वेगशाली  
द्रुत 1044.6  
वेगहीन  
गतिहीन 1042.12  
वेगहीनता  
गतिहीनता 1042.3  
मंदगामिता 1045.4

वेग ह्रास  
वेग रोध 1043.7  
वेग ह्रासन  
वेग रोधन 1043.8  
वेगित  
वेग वर्धित 1043.17  
वेगिनी  
नदी 20.1  
वेगी [वेगिनी]  
द्रुतगामी [द्रुतगामिनी] 1044.7  
वेट (अं)  
वाट 962.27  
भार 963.1  
वेटर (अं)  
परोस कर्मी सूची 183.21  
वेटलिप्टर  
वेटलिप्टर 486.4 ⇌  
वेटलिप्टर (अं)  
वेटलिप्टर 486.4  
वेटलिप्टिंग  
वेटलिप्टिंग 486.3 ⇌  
वेटलिप्टिंग (अं)  
वेटलिप्टिंग 486.3  
वेटलैसनस (अं)  
भारहीनता 963.3  
वेटिंग रुम (अं)  
प्रतीका कक्ष 614.11  
वेटी  
नीका 1072.2  
वेडा  
नीका 1072.2  
वेडा 1072.51  
वेडमिका  
वेडवी 202.29  
वेण  
गायक 480.17  
वेणा  
गॉडर घास मूल 112.15  
वेणिका  
वेणी 223.17  
वेणिनी  
वेणीधारिणी 137.22  
वेणि बंध  
वेणी 223.17  
वेणी  
घारा 21.14  
नदी संगम 21.20  
वेणी 223.17 ⇌  
वेणीधारिणी  
वेणीधारिणी 137.22 ⇌  
वेणीर  
नीम 13.12  
वेणु  
बॉस 597.8  
बॉसुरी 461.63  
बेंत 923.8  
वेणु कर्कर  
कनेर 14.3

वेणुका  
बेंत 923.8  
वेणु वन  
वंशी वन 12.26  
वेणु वादक  
बॉसुरी वादक 461.64  
वेसन  
वेसन 643.23 ⇌  
वेसन विट्ठा  
वेसन विट्ठा 632.24 ⇌  
वेसन घासा  
वेसन घासा 643.24 ⇌  
वेसनभोगिता  
वेसनिकता 643.22  
वेसन वितरक  
बरुजी 935.18  
वेसन वितरक 643.25 ⇌  
वेसस  
बेंत 923.8  
वेससिनी  
पीराणिक नदी सूची 20.23  
वेससी  
बेंत 923.8  
वेसाल  
भूत 786.1  
वेसाल 786.11 ⇌  
वेसाल ग्रह -  
भूत बाधा 759.7  
वेसाल साधक  
वेसाल साधक 759.14 ⇌  
वेसाली  
दुर्गा 776.7  
वेसालीय  
वेसालीय 786.17 ⇌  
वेसा  
अध्यात्मज्ञ 761.25  
अनुभूति कर्ता 263.11  
ऋषि 769.2  
ज्ञानी 305.30  
परिज्ञाता 305.33  
पूर्णविद्य 318.5  
विद्य 318.4  
विद्वान 319.8  
वेत्र  
असुर सूची 783.8  
बेंत 923.8  
वेत्रक  
सरकंडा 597.11  
वेत्र दंड  
वेत्र दंड 870.6 ⇌  
वेत्रधर  
छकीबरदार 930.10  
वेत्रधारी  
छकीबरदार 930.10  
वेत्रहा  
इंद्र 773.5  
वेत्रिक  
छकीबरदार 930.10

वेत्री  
छकीबरदार 930.10  
वेद  
घारः उपमान सूची 948.24  
घारः समुदाय 687.6  
ज्ञान 305.1  
प्रत्यक्ष ज्ञान 305.5  
यथार्थ ज्ञान 761.8  
- विदुर 771.87  
वेद 740.22 ⇌  
वेद अंग  
वेदांग 740.40  
वेद आशा  
वेद वाक्य 740.23  
वेद आधारित सूत्र ग्रंथ  
सूत्र ग्रंथ 740.48  
वेद उपांग  
वेदोपांग 740.42  
वेद ऋषि  
भृतरि 789.11  
वेदकर्ता  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1  
वेद कुशल  
वेदज्ञ 761.29  
वेद कील्यक  
शिव 767.1  
वेदगर्भ  
ब्रह्मा 766.1  
ब्रह्मण 731.13  
विष्णु 768.1  
वेदगुप्त  
वेद ध्यास 789.21  
वेद गुह्य  
विष्णु 766.1  
वेद ऋष्युक्त्य  
संपूर्ण वेद 740.24  
वेद चौर  
हयग्रीव 769.33  
वेद जननी  
गायत्री 774.34  
वेदज्ञ  
वेदज्ञ 761.29 ⇌  
वेदज्ञ ब्रह्मण  
वेदज्ञ ब्रह्मण 731.18 ⇌  
वेद ज्ञान  
वेद ज्ञान 761.9 ⇌  
वेद त्रय  
तीन वेद 740.25  
वेदत्रयी  
तीन वेद 740.25  
वेदन  
अभिव्यक्ति 428.1  
प्रार्थना 350.4  
बलि कर्म 754.1  
संज्ञापन 441.7  
वेदन कर्ता  
निवेदक 350.16

आपक 441.20  
 ।  
 पुपुति 263.1  
 ट 392.1  
 गोव्याधा 391.7  
 शैरिक पीडा 392.4  
 गीन  
 भावुक 358.30  
 ।  
 चा 134.1  
 चारंगत  
 रज 761.29  
 पुराण  
 र्म ग्रंथ 738.1  
 'दु धर्मग्रंथ 740.9  
 प्रकट कर्ता  
 एमा 766.1  
 बाह्य  
 वेदीय 740.63  
 बीज  
 लज्जा 771.1  
 मंत्र  
 इ मंत्र 741.5 ⇌  
 मज्जु  
 त 923.8  
 माता  
 आयत्री 774.34  
 गर्ग 776.7  
 मातृका  
 गवित्री 774.97  
 भूर्ति  
 दिङ्ग ब्राह्मण 731.18  
 विला  
 अनुभूति कर्ता 263.11  
 रहस्य  
 उपनिषद 740.12  
 विं  
 मुताविं 789.11  
 बचन  
 वेद वाक्य 740.23  
 बली  
 भ्रम्सरा सूची 782.3  
 गीराणिक नदी सूची 20.23  
 (बली (पूर्व जन्म)  
 सीता 770.66  
 । वाक्य  
 धर्म आदेश 742.7  
 प्रामाणिक कथन 327.4  
 वेद वाक्य 740.23 ⇌  
 (बावी  
 वेदङ्ग 761.29  
 विद  
 विष्णु 768.1  
 वेदङ्ग ब्राह्मण 731.18  
 इ विभाजक  
 वेद व्यास 789.21  
 इ विरुद्ध  
 अवेदीय 740.63

वेद विहित  
 वेदीय 740.62  
 वेद वेदांग  
 लौकिक ज्ञान 305.5  
 वेद वेदांग 740.35 ⇌  
 वेद वेदांत  
 हिंदू धर्मग्रंथ 740.9  
 वेद व्यास  
 ऋषि मुनि सूची 789.17  
 विष्णु: चौबीस अवतार सूची 769.9  
 वेद व्यास 789.21 ⇌  
 वेद सम्प्रत  
 वेदीय 740.62  
 वेदांग  
 वेदांग 740.40 ⇌  
 शिव 767.1  
 वेदांग सूची  
 वेदांग सूची 740.41 ⇌  
 वेदांत  
 वेदांत 740.44 ⇌  
 वेदांत उपवेश  
 योग वासिष्ठ 740.46  
 वेदांत वर्णन  
 छह आस्तिक दर्शन सूची 760.28  
 वेदांत धर्म  
 हिंदू धर्म 737.27  
 वेदांत सूत्र  
 ब्रह्म सूत्र 740.45  
 वेदांती वर्णन  
 बड़ दर्शन 760.27  
 वेदाज्ञा  
 वेद वाक्य 740.23  
 वेदाधि  
 ओम् 741.19  
 वेदाधि वर्ण  
 ओम् 741.19  
 वेदाध्ययन  
 विष्णु 768.1  
 वेदानुसूत्र  
 वेदीय 740.62  
 वेदानुमोहित  
 वेदीय 740.62  
 वेदानुबचन  
 वेद वाक्य 740.23  
 वेदानुशासन  
 वेद वाक्य 740.23  
 वेदारंभ  
 सौलह संस्कार सूची 798.3  
 वेदारंभ संस्कार  
 उपनयन संस्कार 798.20  
 वेदाद्य  
 चतुर्मुख 969.4  
 वेदिका  
 आसन 595.2  
 चौकी 595.17  
 चौकोर मंडप 800.9  
 धर्म सभा 894.3  
 यज्ञ वेदी 753.24

वेदी 745.45  
 वेदिजा  
 झोपडी 771.64  
 वेदित  
 अनुभूत 263.10  
 अभिव्यक्त 428.17  
 उद्घाटित (रहस्य) 822.25  
 निवेदित 350.15  
 प्रकट 822.27  
 संज्ञापित 441.19  
 वेदितव्य  
 ज्ञान योग्य 305.42  
 वेदिता  
 अनुभूति कर्ता 263.11  
 वेदिनी  
 वेता 131.14  
 वेधी  
 अनुभूति कर्ता 263.11  
 आधार 596.1  
 आल्टर 745.22  
 चौकोर मंडप 600.9  
 ज्ञानी 305.30  
 धर्माधार्य 790.2  
 परिज्ञाता 305.33  
 बुद्धिमान 301.21  
 मुद्रा अंगुठी 414.16  
 यज्ञ वेदी 753.24  
 विद्वान 319.8  
 विवाह कर्ता 799.60  
 विवाह वेदी 802.30  
 वेदङ्ग 761.29  
 वेदङ्ग ब्राह्मण 731.18  
 वेदी 745.45 ⇌  
 वेधी गणित  
 ज्यामिति 958.1  
 वेदीमान  
 ज्यामिति 958.1  
 वेधीय  
 वेधीय 740.62 ⇌  
 वेधेन्धर  
 ब्रह्मा 766.1  
 वेदोद्य  
 सूर्य 8.1  
 वेदोपकरण  
 वेदांग 740.40  
 वेदोपांग  
 वेदोपांग 740.42 ⇌  
 वेदोपांग सूची  
 वेदोपांग सूची 740.43 ⇌  
 वेद्य  
 कथनीय 430.17  
 ज्ञान योग्य 305.42  
 देय 634.27  
 वेध  
 अनुसंधान 307.4  
 खगोल वेध 1.6  
 छिद्र 271.6  
 ठोक 1051.15

प्रहार 918.1  
 लक्ष्य वेध 931.10  
 वेधक  
 अंतर्वेधक 271.21  
 बरमा करने वाला 564.6  
 लक्ष्य वेध कर्ता 931.21  
 वेध विकिरता  
 ऐकुपकवर 172.17  
 वेधन  
 अंतर्वेधन 271.1  
 खनन 1018.1  
 गकाई 1016.4  
 वेधन न करना  
 वेधन न करना 272.6 ⇌  
 वेधना  
 छेदना 271.20  
 बरमा करना 564.11  
 वेधनिका  
 बरमा: वज्र 559.60  
 रत्न वेधनी 559.61  
 वेधनी  
 रत्न वेधनी 559.51  
 वेधनीय  
 वेध्य 518.19  
 वेधशास्त्र  
 वेधशास्त्रा 1.7 ⇌  
 वेधा  
 धर्म 773.32  
 प्रजापति 787.1  
 बृहस्पति 789.22  
 ब्रह्मा 766.1  
 विद्वान 319.8  
 वेधित  
 अंतर्वेधित 271.22  
 वेधी  
 अंतर्वेधक 271.21  
 बरमा करने वाला 564.6  
 लक्ष्य वेध कर्ता 931.21  
 वेध्य  
 वेध्य 518.19 ⇌  
 वेध्यता  
 वेध्यता 518.7 ⇌  
 वेनीर  
 वेनीर 990.15 ⇌  
 वेनीर (अं)  
 वेनीर 990.15  
 वेप  
 अनुतरंग 867.8  
 वेपथु  
 कंपन 1039.11  
 वेपन  
 तरंगण 1040.15  
 वे त्रिज (अं)  
 वेङ्ग त्रिज 982.16  
 वेमा  
 करघा 562.15  
 वेरट  
 गिन चर्णीय 731.33

## वेला

### वेला

अतराल 33.9  
काल 36.1  
तट 25.8  
तरंग 1040.1  
नियत काल 39.1  
पहर 49.1  
बेला तट 25.21  
लहर 1040.17  
साअत 49.12  
सीमा 1001.1

**वेलातिक्रम**  
समयोपरांतता 62.4

**बेल्लन**  
कंपन 1039.11  
गुल्ल 111.15  
बेलन 580.5

**बेल्लि**  
लता 111.17

**बेल्लित**  
लिपटा [लिपटी] 575.12  
वक्र 974.16  
वेष्टित 592.17

**बेव र्थ (अ)**  
तरंग माप 1040.9

**बेरा**  
छद्म बेरा 589.16  
जनता 883.5  
नाट्य बेरा 464.38  
बस्ती 619.1  
भवन 602.7  
मंच पूष्ठ 471.16  
विशिष्ट बेरा 589.11  
बेरा 589.1  
बेरया महल्ला 807.12  
सैनिक शिविर 933.11  
स्वोग 464.13

**बेराकार**  
दर्जी 577.3

**बेरागुह**  
सज्जा कक्ष 814.14

**बेराधर**  
स्वोगी 464.14

**बेरा धारण**  
परिधानन 589.2

**बेराधारी**  
बेराधारी 589.26 ⇨

**बेराभूषा**  
बेरा 589.1

**बेरा बनिला**  
बेरया 807.5

**बेरा विन्यास**  
बेरा 589.1

**बेरा विशेष**  
विशिष्ट बेरा 589.11

**बेरा सज्जा**  
आहार्य अभिनय 464.36

### बेरांत

छोटा तालाब 18.11

**बेरांत**  
वेंशित 589.25 ⇨

**बेरी**  
बेराधारी 589.26

**बेरम**  
गृह 801.1  
भवन 602.7  
बेरयालय 807.13

**बेरया**  
नवकन्या सूची 774.20  
बेरया 807.5 ⇨

**बेरया (बे.)**  
सामान्या नायिका 456.15

**बेरयागमन**  
बेरयागमन 807.1 ⇨

**बेरयागमन करना**  
बेरयागमन करना 807.14 ⇨

**बेरयागमिता**  
बेरयागमन 807.1

**बेरयागामी**  
बेरयागामी 807.16 ⇨

**बेरयागुह**  
बेरयालय 807.13

**बेरया दलाल**  
बेरया दलाल 807.9 ⇨

**बेरया बाजार**  
बेरया महल्ला 807.12

**बेरया महल्ला**  
बेरया महल्ला 807.12 ⇨

**बेरयालय**  
बेरयालय 807.13 ⇨

**बेरयावास**  
बेरयालय 807.13

**बेरया वृत्ति**  
बेरया वृत्ति 807.2 ⇨

**बेरया वृत्ति करना**  
बेरया वृत्ति करना 807.15 ⇨

**बेरयावृत्ति करना**  
बेरया वृत्ति करना 807.15

**बेष्ट**  
घेर 972.6  
रंगव्य गोंद 1012.9

**बेष्टक**  
आवरण पूष्ठ 447.24  
नेमि 1077.8  
बेष्टक 592.18 ⇨

**बेष्टन**  
परिधि 972.4  
बेठन 415.13  
लपेटन 575.2  
लिकाफ्ला 444.11  
बेष्टन 592.5 ⇨

**बेष्ट सार**  
गंध धूप 274.17

**बेष्टित**  
धिरा [धिरी] 604.23

मरोडा [मरोडी] 975.30  
लिपटा [लिपटी] 575.12  
वेष्टित 592.17 ⇨

**बेष्टित करना**  
वेष्टित करना 592.11 ⇨

**बेष्टक**  
बेष्टक 592.18

**बेष्टन**  
बेठन 415.13

**बे सत्र**  
परजन 725.3

**बेकटेश**  
विष्णु मूर्ति सूची 746.7

**बेकिलेटर (अ)**  
रोशनदान 808.20  
बातायन 608.14

**बेप (अ)**  
खलनायिका 467.13

**बेकतिक**  
हीरातरास 586.6

**बेकर्तन**  
कर्ण 771.47

**बेकल्पिक**  
अनिर्धारित 328.15  
बेकल्पिक 516.4 ⇨

**बेकल्पिक विधितः**  
बेकल्पिक विधितः 516.7 ⇨

**बेकल्पिक साधन**  
बेकल्पिक साधन 558.5 ⇨

**बेकालिक**  
सायंकालीन 47.20

**बेकुंठ**  
इंद्र 773.5  
मोक्ष लोक 258.10  
विष्णु 788.1  
स्वर्ग 259.1

**बेकुंठ पुत्री**  
विष्णु. नगर 788.6

**बेकुंठीय**  
स्वर्गिक 259.10

**बेकृत**  
खोटा [खोटी] 98.13  
परिवर्तित 532.16

**बेकृत्य**  
विकार 536.1

**बेकेशन (अ)**  
दीर्घ अवकाश 494.17

**बेकपूज्य (अ)**  
निर्वात 1005.4

**बेकपूम प्रलासक (अ)**  
धरमस 678.12

**बेकम**  
वीरता विषयक 396.5

**बेकमीय**  
वीरता विषयक 396.5  
वीरोचित 396.7

**बेकान्त**  
रत्न सूची 96.5

**बेकान्त 96.27 ⇨**

**बेकनीन (अ)**  
टीका 176.28

**बेकरी**  
व्याकृता वाचा 299.2  
शुद्ध उच्चारण 411.4  
सरस्वती 775.8

**बेखानस**  
तपस्वी 789.14  
वानप्रस्थ आश्रमी 233.10

**बेखानसि**  
ऋषि मुनि सूची 789.17

**बेखन (अ)**  
भार यान 1071.2  
माल डिब्बा 1076.11  
• वेन 1071.61.

**बेखटिक**  
हीरातरास 586.6

**बेखारिक**  
विद्यारीय 330.17

**बेखर्य**  
उद्दिग्गता 377.4  
तल्लीनता 331.6

**बेखिन्नवीर्य**  
धृतराष्ट्र 771.65  
पांडु 771.71  
यिदुर 771.87

**बेखिन्न्य**  
आश्चर्य 379.1

**बेख (संक्षिप्ता) (अ)**  
निरामिष 204.4

**बेखयंत**  
इंद्र 773.5  
इंद्र: ध्वज 773.9  
ध्वजा 408.4  
स्कंद 773.50

**बेखयंतिक**  
ध्वजा वाहक 408.18

**बेखयंती**  
ध्वजा 408.4  
प्रतीक चिह्न 408.2  
विष्णु: माला 768.10  
सम्मान माला 857.21

**बेखयंती माला**  
बेखयंती माला 228.32 ⇨

**बेखयिकी विद्या ज्ञान**  
घाँसठ कला सूची 397.4

**बेखात्य**  
जाति निर्वासन 870.11  
मिन्न कोटीयता 936.4

**बेखिक**  
आनुवंशिक 727.39

**बेखिटिबिन (अ)**  
निरामिष 204.4  
निरामिषाहारी 204.5

**बेखानकित्ता**  
बेखानकित्ता 307.2 ⇨



**विज्ञानिक**

- विज्ञान संगत 307.13  
 विज्ञानी 307.12  
 विज्ञानीय 307.11  
**विज्ञानिक अनुसंधान**  
 अनुसंधान 307.4  
**विज्ञानिक अन्वेषण**  
 आविष्कार 307.5  
**विज्ञानिक आविष्कार**  
 आविष्कार 307.5  
**विज्ञानिक प्रयोग**  
 नव प्रयोग 307.6  
**विज्ञानिक प्रयोगशाला**  
 प्रयोग शाला 307.7  
**वैद क्लामिंग (अं)**  
 सिंघन कृषि 548.16  
**वैदनेसडे (अं)**  
 बुधवार 46.6  
**वैडाल ब्रतिका**  
 कपटपूर्ण सरल 818.6  
 धर्म पाखंडी 825.4  
**वैडिंग कार्ड (अं)**  
 विवाह निमंत्रण पत्र 1056.3  
 विवाह पत्र 799.38  
**वैणव**  
 बौंसुरी 461.63  
**वैणवी**  
 बौंस नियास 84.10  
 बौंसुरी वादक 461.64  
 शिव 767.1  
**वैतंडिक**  
 कलहप्रिय 708.13  
 तकरारी 708.14  
**वैतानिक**  
 वैतानिक 643.40 ⇌  
**वैतानिकता**  
 वैतानिकता 643.22 ⇌  
**वैतरणी**  
 वैतरणी 256.4 ⇌  
**वैतान**  
 यज्ञोपयुक्त 753.33  
**वैताल**  
 वेताल 786.11  
 वेतालीय 786.17  
**वैतालिक**  
 जादुगर 474.11  
 प्रभासा गायक सूची 841.12  
 बंदीजन 841.15  
 बाप्रीगर 473.18  
 वेताल सायक 759.14  
 वेतालीय 786.17  
**वैतालिकी विद्या**  
 बाप्रीगरी 473.17  
**वैतालिकी विद्या ज्ञान**  
 चौसठ कला सूची 397.4  
**वैद**  
 वैद 172.8

**वैदग्धी**

- तत्कालधी 301.23  
**वैदर कौक (अं)**  
 हवाई मुरगा 85.34  
**वैदर वेन (अं)**  
 वात दिशा यंत्र 85.33  
**वैदर्भ**  
 वार्तालाप कुशल 435.25  
**वैदर्भी**  
 रुक्मिणी 771.84  
**वैदिक**  
 यज्ञोपयुक्त 753.33  
 वेदीय 740.62  
 सुदुर भूत कालीन 36.20  
**वैदिक छंद**  
 वैदिक छंद 452.6 ⇌  
**वैदिक त्रिमूर्ति**  
 त्रिदेव 772.30  
 वैदिक त्रिमूर्ति 765.5 ⇌  
**वैदिक त्रिमूर्ति सूची**  
 वैदिक त्रिमूर्ति सूची 765.6 ⇌  
**वैदिक धर्म**  
 वैदिक धर्म 737.48 ⇌  
 हिंदू धर्म 737.27  
**वैदिक परंपरा**  
 वैदिक परंपरा 795.8 ⇌  
**वैदिक भजन**  
 सूक्त 741.14  
**वैदिक यज्ञ**  
 पशु बलि 754.8  
 यज्ञ सूची 753.2  
**वैदूर्य**  
 नवरत्न सूची 96.7  
 नीलम 96.12  
 पन्ना 96.13  
 रत्न सूची 96.5  
 लहसुनिया 96.25  
**वैदेशिक**  
 उपदिशा विषयक 29.34  
 परदेशीय 34.18  
**वैदेह**  
 अंतपुर दास 651.9  
 अशारीरिक 139.12  
 जनक 770.28  
 व्यापारी वैश्य 731.26  
**वैदेह [वैदेही]**  
 सुंदरकाय 158.11  
**वैदेहक**  
 सार्थपति 657.14  
**वैदेहिक**  
 अशारीरिक 139.12  
 व्यापारी वैश्य 731.26  
**वैदेही**  
 रोचना 274.26  
 व्यापारी वैश्य स्त्री 731.27  
 सीता 770.66  
**वैदेही बल्लभ**  
 शरीका 190.32

**वैद्य**

- अश्विनी कुमार 773.3  
 चिकित्सक 171.13  
 विष्णु 788.1  
 वेदज्ञ 761.29  
 वेदीय 740.62  
 वैद्य 172.8 ⇌  
**वैद्यक**  
 चिकित्सा 171.1  
 वैद्य 172.8  
 वैद्यक 172.5 ⇌  
**वैद्यक अग्नि**  
 वैद्यक अग्नि 106.6 ⇌  
**वैद्यक अग्नि सूची**  
 वैद्यक अग्नि सूची 106.7 ⇌  
**वैद्यकी**  
 चिकित्सा 171.1  
**वैद्यनाथ**  
 ज्योतिर्लिंग सूची 746.19  
 शिव 767.1  
**वैद्यराज**  
 महावैद्य 172.9  
**वैद्याधर**  
 विद्याधरीय 779.18  
**वैद्यिकी**  
 वैद्यक 172.5  
**वैद्य**  
 आधरणीय 808.13  
 कार्य विधीय 514.13  
 धर्म सम्मत 735.12  
 नियमानुकूल 879.18  
 नैतिकतापूर्ण 815.5  
 विधि संगत 514.14  
 कै. 716.19 ⇌  
 कै. 878.26 ⇌  
 सविधान सम्मत 878.29  
**वैद्य अधिकार**  
 अधिभोग अधिकार 822.2  
**वैद्यता**  
 वैद्यता 878.14 ⇌  
 रत्नान वैद्यता 716.3  
**वैद्य यौन संबंध**  
 विवाह 799.1  
**वैद्यमिक**  
 परधर्मी 735.18  
 भिन्न कोटीय 936.10  
**वैद्यम्य**  
 असादृश्य 310.1  
 भिन्न कोटीयता 836.4  
 विपरीतता 310.2  
**वैद्यव्य**  
 वैद्यव्य 804.14 ⇌  
**वैद्यव्य (वे.)**  
 पतिहीनता 804.12  
**वैद्यव्य: 4 मास 10 दिन**  
 इष्टत 804.10  
**वैद्यव्यहीनता**  
 सुहाग 803.11

**वैद्यस**

- ब्रह्मा विषयक 766.17  
**वैद्यतय**  
 ब्रह्मा विषयक 766.17  
**वैद्यात्र**  
 ब्रह्मा: मानस पुत्र 766.11  
 ब्रह्मा विषयक 766.17  
**वैद्यानिक**  
 संविधान सम्मत 878.29  
 संविधानीय 878.28  
**वैद्यानिकता**  
 संवैद्यानिकता 878.17  
**वैद्यिक**  
 कार्य विधीय 514.13  
 वैद्य 878.26  
**वैद्युर्य**  
 कातरता 380.3  
 दापत्य भंग 804.1  
 रहितता 1007.1  
 विद्युरता 804.18  
 हताशा 376.2  
**वैन**  
 वैन 1071.15 ⇌  
 वैन 1071.61 ⇌  
**वैन (अं)**  
 वैन 1071.15  
 वैन 1071.61  
**वैनतेय**  
 अरुण 777.14  
 गरुड 777.15  
 वैनतेय 777.11 ⇌  
**वैनतेय: पिता**  
 वैनतेय. पिता 777.12 ⇌  
**वैनतेय: माता**  
 विनता 787.20  
 वैनतेय माता 777.13 ⇌  
**वैनयिक**  
 वहन यान 1071.19  
**वैनायिकी विद्या ज्ञान**  
 चौसठ कला सूची 397.4  
**वैनाशिक**  
 ज्योतिषी 261.2  
 बौद्ध धर्म 737.6  
 बौद्ध धर्मावलंबी 737.7  
 बौद्ध संप्रदाय सूची 737.15  
**वैनाशिक समय**  
 बौद्ध धर्म 737.6  
**वैनीतक**  
 वहन यान 1071.19  
 सवारी पशु 127.4  
**वैनेय**  
 ज्योतिषी 261.2  
 धर्म दीक्षित 742.25  
**वैनेशियन ब्लाईंड**  
 वैनेशियन ब्लाईंड 805.13 ⇌  
**वैनेशियन ब्लाईंड (अं)**  
 वैनेशियन ब्लाईंड 805.13

## वैद्युत

### वैद्युत

द्वैतिक 772.40

### वैभव

ईश्वरीय लीला 764.2

धन संपत्ति 624.10

महत्त्व 852.1

वैभव 226.5 ⇨

स्वच्छता 218.1

### वैभवपूर्ण

धनाढ्योचित 626.17

राजा योग्य 882.35

### वैभवशालिता

वैभव 226.5

### वैभवशाली

वैभवशाली 226.15 ⇨

### वैभवहीन

शोभाहीन 226.12

### वैभावर

रात विषयक 48.13

### वैभाषिक

बौद्ध संप्रदाय सूची 737.15

वैकल्पिक 516.4

### वैभाषिक दर्शन

छह नास्तिक दर्शन सूची 760.29

### वैभिन्य

असादृश्य 310.1

### वैभ्राज

विष्णु 768.1

### वैभ्राज वन

देवता. उद्यान सूची 772.13

### वैमत्य

नापसंदगी 401.2

मतभेद 338.4

### वैमनस्य

उदासी 380.5

उद्विग्नता 377.4

खिन्नता 380.2

रोगग्रस्तता 162.1

वैमनस्य 706.10 ⇨

### वैमनस्यपूर्ण

वैमनस्यपूर्ण 706.21 ⇨

### वैमनस्यहीन

सौमनस्यपूर्ण 705.30

### वैमनस्यहीनता

सौमनस्य 705.18

### वैमनस्य होना

वैमनस्य होना 706.14 ⇨

### वैमात्र

सौतेला [सौतेली] 717.14

### वैमात्रा

सौतेली बहन 723.23

### वैमात्रेयी

सौतेली बहन 723.23

### वैमानिक

वेद्यता 772.1

विमान चालक 1081.2

विमान यात्री 1087.22

### वैमानिकी

विमान विद्या 1081.29

### वैमूढ्य

पलायन 916.1

### वैमूढक

स्त्री वेश पुरुष नृत्य 462.5

### वैयक्तिक

वैयक्तिक 689.3 ⇨

### वैयक्तिकता

वैयक्तिकता 689.2 ⇨

व्यक्तित्व 836.1

### वैयक्तिक संपत्ति

निजी संपत्ति 624.14

### वैयकारण

व्याकरणज्ञ 425.2

### वैर

शत्रुता 706.1

### वैरकारी

शत्रुताकारक 706.18

### वैर खंडी

शत्रुता निवारक 706.19

### वैर निर्यातन

शत्रुता निवारण 706.8

### वैर परिशोधन

शत्रुता निवारण 706.8

### वैरपूर्ण

वैमनस्यपूर्ण 706.21

शत्रुतापूर्ण 706.15

### वैर प्रतिक्रिया

प्रतिशोध 873.2

### वैर प्रतिमोचक

शत्रुता निवारक 706.19

### वैर प्रतिशोध

प्रतिशोध 873.2

### वैर प्रतिशोधक

शत्रुता निवारक 706.19

### वैर भाव

वैमनस्य 706.10

वैमनस्य 706.10

### वैर शुद्धि

प्रतिशोध 873.2

### वैर शोध

प्रतिशोध 873.2

### वैरहीन

ईर्ष्याहीन 709.7

### वैराड्डी शो (अँ)

विविध मनोरंजन 468.3

### वैरागी

विरक्त 366.6

संन्यासी 790.11

### वैरागी बनना

संन्यास लेना 233.9

### वैराग्य

ईश्वरः विभूति सूची 764.4

विरक्ति 366.2

संन्यास आश्रम 233.6

### वैराज

ईश्वर 764.1

पुरुष 764.21

ब्रह्मा 786.1

ब्रह्मा विषयक 766.17

मनु 788.1

स्वायंभुव मनु 788.6

वैराज्य

पराधीनता 901.1

### वैरिच

ब्रह्मा विषयक 766.17

### वैरिच्य

ब्रह्मा. पुत्र 766.9

वैरिच्यबल कोस्ट (अँ)

अनियत लागत 644.10

वैरिचिकेशन (अँ)

सत्यापन 327.5

### वैरी

वैमनस्यपूर्ण 706.21

शत्रु 706.2

### वैरी नाशन

उच्चाटन 758.15

### वैरुष्य

असमरूपता 967.11

मित्र कोटीयता 936.4

### वैरोधन

बलि 769.37

बोधिसत्त्व सूची 793.16

### वैरोधनि

बलि 769.37

### वैरो-द्वार

शत्रुता निवारण 706.8

### वैल

वायल 580.42

### वैलक्रो

वैलक्रो 571.19 ⇨

### वैलक्रो (अँ)

वैलक्रो 571.19

### वैलक्षण्य

असादृश्य 310.1

### वैलक्ष्य

विपरीतता 310.2

### वैलूर

लहसुनिया 96.25

### वैलोसिटी (अँ)

गति वेग माप 958.25

वेग 1042.9

### वैलोसिटी मीटर (अँ)

वेग मापी 958.28

### वैल्कम (अँ)

स्वागत 1059.1

### वैल्ड करना

झलाई करना 565.22

### वैल्डर (अँ)

झलाईगर 565.26

### वैल्डिंग (अँ)

झलाई 565.4

### वैल्डिंग मशीन (अँ)

झलाई यंत्र 565.6

### वैल्ड टैक्स (अँ)

संपत्ति कर 647.7

### वैल्वेट (अँ)

मखमल 580.34

### वैवर्ण्य

मित्र कोटीयता 936.4

### वैवर्त

परिधि चक्रण 1033.2

### वैवश्यक

वैवश्यकतापूर्ण 339.36

### वैवश्यकता

वैवश्यकता 339.8 ⇨

### वैवश्यकतापूर्ण

वैवश्यकतापूर्ण 339.36 ⇨

### वैवस्वत

मनु 788.1

सूर्यीय 8.9

### वैवस्वत मनु

मनु सूची 788.4

वैवस्वत मनु 788.5 ⇨

### वैवस्वती

दक्षिण 29.10

यमी 774.75

यमुना 20.18

### वैवाह

वैवाहिक 799.59

### वैवाहिक

वैवाहिक 799.59 ⇨

### वैवाहिक संबंधी

वैवाहिक संबंधी 724.2 ⇨

### वैवाह्य

वैवाहिक 799.59

### वैशंपायन

ऋषि मुनि सूची 789.17

### वैशाख

भारतीय मास सूची 43.6

मधनः दंड 554.14

वसंत काल 52.1

वैशाख 43.8 ⇨

### वैशाख 1 (सौर विक्रमी)

नव वर्ष सूची 42.19

### वैशाख नंदन

गद्या 127.30

### वैशाख रण्जु

मंधनः रस्सी 554.15

### वैशाख संक्रांति

वैसाखी 57.41

### वैसाखी

नव वर्ष सूची 42.19

वैसाखी 57.41

### वैसाखीय

वसंत कालीन 52.3

### वैशाख्य

ऋषि मुनि सूची 789.17

### वैशारद्य

बुद्धः आत्मविश्वास 793.3

### वैशालीय

महावीर 792.4

**वैशाल्य**  
तक्षक नाग 778.20  
**वैशिक**  
वेरयागामी 807.16  
**वैशिष्ट्य**  
उत्तमतमता 313.3  
परिष्कृतता 537.3  
सम्प्रीकरण 733.1  
**वैशेषिक**  
उत्तम 313.13  
उपमान 309.8  
विशिष्ट 312.15  
**वैशेषिक दर्शन**  
छह आस्तिक दर्शन सूची 760.28  
**वैशेष्य**  
विशिष्टता 312.2  
**वैश्य**  
द्विज सूची 731.8  
वर्ण सूची 731.4  
वैश्य 731.24 ⇨  
वैश्याय 731.37  
व्यापारी वैश्य 731.26  
**वैश्य स्त्री**  
वैश्य स्त्री 731.25 ⇨  
**वैश्या**  
वैश्य स्त्री 731.25  
**वैश्याय**  
वैश्याय 731.37 ⇨  
**वैश्याक वन**  
देयता: उद्यान सूची 772.13  
**वैश्याण**  
कुबेर 779.4  
रावण 784.12  
**वैश्याणावास**  
बरगद 13.16  
**वैश्या**  
ब्रह्मांडीय 1.15  
विश्वेदेव विषयक 777.17  
**वैश्यादेव**  
विश्वेदेव विषयक 777.17  
**वैश्यादेव यज्ञ**  
यज्ञ सूची 753.2  
**वैश्यादेशिक**  
विश्वेदेव विषयक 777.17  
**वैश्यादेश्य**  
विश्वेदेव विषयक 777.17  
**वैश्याकप**  
अनेकाकार 967.15  
**वैश्याकप्य**  
अनेकाकारता 967.4  
**वैश्याकर**  
ईश्वर 764.1  
जीव 121.4  
दानव सूची 783.13  
पाचन शक्ति 178.2  
प्राण तरप 245.1  
**वैश्याकर मुख**  
शिब 767.1

**वैश्या**  
असंगतता 439.1  
असादृश्य 310.1  
केंद्रहीनता 971.9  
**वैश्यावत**  
विभुव 5.22  
**वैश्याक**  
वेगार कृषक 553.28  
वेगार श्रमिक 643.21  
**वैश्याव**  
निरामिवाहारी 204.5  
विष्णु विषयक 768.18  
**वैश्याव आहार**  
वैश्याव आहार 204.3 ⇨  
**वैश्याव देवी**  
वैश्याव देवी 774.88 ⇨  
**वैश्याव धर्म**  
वैश्याव संप्रदाय 737.49  
**वैश्याव मसाला**  
वैश्याव मसाला 281.5 ⇨  
**वैश्याव: मुख लेपन मिट्टी**  
गोपी घदन 100.14  
**वैश्याव संप्रदाय**  
वैश्याव संप्रदाय 737.49 ⇨  
**वैश्याव साधु**  
वैश्याव साधु 790.22 ⇨  
**वैश्यावाचार**  
वैश्याव संप्रदाय 737.49  
**वैश्यावी**  
तुलसी 13.9  
दुर्गा 776.7  
देवी: शक्ति सूची 774.50  
भभूत 106.17  
मनसा 774.62  
विष्णु: शक्ति 768.2  
वैश्याव देवी 774.88  
सप्त मातृका सूची 774.70  
**वैश्यावी देवी**  
वैश्याव देवी 774.88  
**वैसा**  
वैसा 317.31 ⇨  
**वैसा [वैसी]**  
तदनुरूपी 967.18  
वैसा 317.31  
सदृश्य 309.20  
सादृश्य: उक्ति सूची 309.28  
**वैसा ही**  
अपरिवर्तित 533.9  
समान 309.22  
**वैसे**  
वैसे 514.24 ⇨  
**वैसे ही**  
प्रयोजनहीनता: 509.5  
यथापूर्वतः 533.17  
**वैश्यावत**  
नम यात्री 1087.20  
वायुवाहित 1041.10

**वैशिकल (अं)**  
यान 1070.1  
**वै**  
उस लिए 507.11  
**वै**  
वह 316.14  
**वैट**  
मतदान पत्र 888.20  
**वैट मींगना**  
समर्थन मींगना 329.15  
**वैटर (अं)**  
निर्वाचक 888.5  
मतदाता 888.17  
**वैटर सूची**  
निर्वाचक सूची 888.9  
**वैटाधिकार**  
मताधिकार 888.15  
**वैटाधिकारी**  
मताधिकारी 888.35  
**वैटिंग (अं)**  
निर्वाचन 888.1  
मतदान 888.16  
**वैडका**  
वैडका 209.19 ⇨  
**वैडक**  
विवाहित 799.64  
**वैडक्य**  
वाहनीय 1061.19  
**वैका**  
माल डिब्बा 1076.11  
विवाहिता 799.65  
सारथी 1079.10  
**वैक**  
वैक 274.28 ⇨  
**वैक**  
वह 316.14  
**वैलीबाल**  
वैलीबाल 477.15 ⇨  
**वैलीबाल (अं)**  
वैलीबाल 477.15  
**वैल्युव (अं)**  
पुस्तक खंड 447.1  
**वैकटेश्वर**  
तिरुपति अवतार 769.10  
विष्णु 768.1  
**वैकटेश्वर स्वामी**  
तिरुपति अवतार 769.10  
**वैग**  
वैग्य 844.5  
**वैग्य**  
वैग्य 844.5 ⇨  
वैग्य रचना 450.30  
**वैग्य करना**  
वैग्य करना 844.10 ⇨  
**वैग्यकार**  
वैग्यकार 448.5 ⇨  
**वैग्य चित्र**  
कार्टून 404.12

**वैग्य चित्रकार**  
कार्टूनिस्ट 404.27  
**वैग्यपूर्ण**  
कटाक्षपूर्ण 844.13  
**वैग्य बाण**  
कटाक्ष 844.3  
**वैग्य बाण लगना**  
कटाक्ष लगना 844.8  
**वैग्य बिद्ध होना**  
कटाक्ष लगना 844.8  
**वैग्य रचना**  
वैग्य रचना 450.30 ⇨  
**वैग्य लेखक**  
वैग्यकार 448.5  
**वैग्य हास**  
उपहास 844.1  
**वैग्यात्मक**  
वैग्यात्मक 844.15 ⇨  
वैग्यात्मक 426.31  
**वैग्यार्थ**  
वैग्यार्थ 426.6  
**वैग्योक्ति**  
कटाक्ष 844.3  
परिजल्प 435.12  
**वैग्योक्ति करना**  
कटाक्ष करना 844.7  
**वैग्यक**  
अभिव्यक्ति कर्ता 428.18  
**वैग्यजन**  
अंग 139.8  
आहार पदार्थ 186.1  
आहार व्यंजन 199.10  
दाढ़ी मूँठ 136.1  
वैग्यजन अक्षर 410.7  
स्वादित्य आहार 197.11  
**वैग्यजन अक्षर**  
वैग्यजन अक्षर 410.7 ⇨  
**वैग्यजन तालिका**  
मैन्यू 199.8  
**वैग्यजन वर्ण**  
वैग्यजन अक्षर 410.7  
**वैग्यजन विधि**  
पाक विधि 195.4  
**वैग्यजन शैली**  
पाक शैली 195.5  
**वैग्यजना**  
अभिव्यक्ति 428.1  
शब्द शक्ति सूची 426.3  
**वैग्यजनात्मक**  
वैग्यजनात्मक 426.31 ⇨  
**वैग्यजनार्थ**  
वैग्यजनार्थ 426.6 ⇨  
**वैग्यजित**  
अभिव्यक्त 428.17  
चिह्नित 407.23  
विपक्षित 426.32  
**वैग्य**  
वैग्य सूची 783.19

## व्यक्त

**व्यक्त**  
 अभिव्यक्त 428.17  
 कथित 430.16  
 प्रकट 822.27  
 स्पष्ट 822.20  
**व्यक्त गणित**  
 अंक गणित 953.1  
 ज्यामिति 956.1  
 व्यक्त गणित 952.3 ⇌  
**व्यक्तता**  
 स्पष्टता 822.1  
**व्यक्त राशि**  
 ज्ञात राशि 952.7  
**व्यक्त शब्द**  
 व्याकृता वाचा 299.2  
**व्यक्ति**  
 व्यक्ति 689.1 ⇌  
**व्यक्तिः असामान्य तत्त्व**  
 व्यक्तित्व 836.1  
**व्यक्तिकोश**  
 व्यक्तिकोश 446.11 ⇌  
**व्यक्तिगत**  
 वैयक्तिक 689.3  
**व्यक्तिगत विशिष्ट सत्ता**  
 व्यक्तित्व 836.1  
**व्यक्ति चित्र**  
 पोर्ट्रेट 404.2  
 संस्मरण 450.19  
**व्यक्तित्व**  
 व्यक्तित्व 836.1 ⇌  
**व्यक्तित्व परिवर्तन**  
 सांख्यिक अभिनय 464.27  
**व्यक्तित्वपूर्ण**  
 व्यक्तित्वयुक्त 836.7  
**व्यक्तित्वयुक्त**  
 व्यक्तित्वयुक्त 836.7 ⇌  
**व्यक्तित्वहीन**  
 व्यक्तित्वहीन 836.8 ⇌  
**व्यक्तित्वहीनता**  
 व्यक्तित्वहीनता 836.2 ⇌  
**व्यक्ति पूजा**  
 व्यक्ति पूजा 884.22 ⇌  
**व्यक्ति वर्णन**  
 व्यक्ति वर्णन 449.6 ⇌  
**व्यक्ति वाचक संज्ञा**  
 संज्ञा सूची 425.15  
**व्यक्तिवाद**  
 व्यक्ति पूजा 884.22  
**व्यक्तिशाः**  
 व्यक्तिशाः 689.4 ⇌  
**व्यग्र**  
 अस्थिर 1037.22  
 अस्थिरचित्त 355.7  
 उद्विग्न 377.13  
 क्षिणाग्रस्त 377.10  
 संकटग्रस्त 909.19  
**व्यग्रतः**  
 जल्दबाजी में 496.14

**व्यग्रता**  
 अस्थिरचित्तता 355.3  
 आतुरता 496.3  
 उद्विग्नता 377.4  
**व्यजन**  
 पंचा 85.27  
**व्यतिकीर्ण**  
 विकीर्ण 288.11  
**व्यतिक्रम**  
 अनुबंध भंग 338.14  
 अभुगतान 639.1  
 दुष्कर्म 812.6  
 विपरीतता 310.2  
 व्यतीति 74.1  
 सीमातिक्रमण 1001.27  
**व्यतिक्रमी**  
 नियम भङ्गक 879.21  
 भुगतान अकर्ता 639.18  
**व्यतिक्रान्ति**  
 क्रम विस्थापना 992.2  
**व्यतिरेक**  
 अतिशयोक्ति अलंकार 454.3  
 विपरीतता 310.2  
**व्यतिरेकी**  
 अतिक्रामक 1001.42  
 विश्लेषक 427.33  
**व्यतिरोपण**  
 उच्छेदन 1017.1  
**व्यतीत**  
 अतीत 63.8  
 गत 1091.8  
 भूत कालीन 36.18  
 भूतपूर्व 65.3  
 व्यतीत 74.3 ⇌  
**व्यतीतता**  
 व्यतीतताः 74.5 ⇌  
**व्यतीतता**  
 अतीतता 63.3  
**व्यतीतः भाव**  
 व्यतीति 74.1  
**व्यतीत होना**  
 व्यतीत होगा 74.2 ⇌  
**व्यतीति**  
 काल क्षेप 36.8  
 व्यतीति 74.1 ⇌  
**व्यथन**  
 काकु 465.14  
**व्यथिता**  
 यंत्रणा दाता 391.32  
**व्यथा**  
 दुःख 391.1  
 मनोव्यथा 391.7  
 शारीरिक पीडा 392.4  
 शोक 383.1  
**व्यथा कथा**  
 दुःखगाथा 391.4  
**व्यथाकर**  
 यंत्रणा दाता 391.32

**व्यथाकारी**  
 मनोव्यथाकारी 391.27  
**व्यथा होना**  
 मनोव्यथा होना 391.19  
**व्यथित**  
 दुःखी 391.24  
 पीडाग्रस्त 392.28  
 मनोव्यथित 391.26  
 शोकग्रस्त 383.8  
**व्यथित होना**  
 मनोव्यथा होना 391.19  
**व्यथी**  
 भयभीत 395.19  
 मनोव्यथित 391.26  
 शोकग्रस्त 383.8  
**व्यपगत**  
 रहित 1007.3  
**व्यपदिष्ट**  
 निर्देशित 347.18  
**व्यपदेश**  
 अपदेश 435.15  
 छल 827.7  
**व्यपदेश्य**  
 परिभाष्य 317.19  
**व्यपनय**  
 पहुँचाई 1053.5  
**व्यपनीत**  
 अपनीत 1053.13  
**व्यपनेता**  
 अपनायक 1053.14  
**व्यपरोपण**  
 विस्थापन 1036.4  
**व्यपेत**  
 अंतगत 995.12  
 विलग्न 1011.5  
**व्यपोह**  
 अपनीत 1053.13  
**व्यभिचार**  
 अपराध 861.1  
 पतिव्रतहीनता 806.2  
 लफ़ंगापन 811.3  
 विलास 363.6  
 विवाह अनिच्छा 806.1  
**व्यभिचार करना**  
 व्यभिचार करना 806.8 ⇌  
**व्यभिचारिणी**  
 दुरचरित्रा 811.6  
 व्यभिचारिणी 806.11 ⇌  
**व्यभिचारिणी (बै.)**  
 पतिव्रतहीना 806.9  
**व्यभिचारी**  
 अनेकार्थी 426.36  
 अस्थिर 1037.22  
 आरोह अवरोह शील 458.64  
 प्रवाहशील 1041.8  
**व्यभिचारी 806.10 ⇌**  
 संबल 1037.19

**व्यभिचारी (बै.)**  
 दुरचरित्र 811.5  
**व्यभिचारी भाव**  
 संघारी भाव 358.5  
**व्यभिमान**  
 प्रम 342.1  
**व्यय**  
 उपभोग 524.1  
 खपत 644.6  
 लागत 644.7  
 व्यय 644.1 ⇌  
**व्ययक**  
 व्यय कर्ता 644.19  
**व्यय कर**  
 व्यय कर 647.12 ⇌  
**व्यय करना**  
 व्यय करना 644.13 ⇌  
**व्यय कर्ता**  
 व्यय कर्ता 644.19 ⇌  
**व्यय विवरण पत्र**  
 वाउचर 632.29  
**व्ययशील**  
 व्ययशील 644.22 ⇌  
**व्ययसाध्य**  
 व्ययसाध्य 644.20 ⇌  
**व्यय होना**  
 व्यय होना 644.12 ⇌  
**व्ययित**  
 व्ययित 644.18 ⇌  
**व्ययी**  
 व्यय कर्ता 644.19  
 व्ययशील 644.22  
 हासशील 531.12  
**व्यर्थ**  
 अनावश्यक 525.9  
 अनिच्छनीय 380.11  
 अनुपयोगी 525.8  
 अर्थहीन 426.28  
 असंगत 439.5  
 असफल 513.4  
 असफलतः 513.5  
 प्रतिफलहीन 510.14  
 प्रयोजनहीन 509.3  
 लाभहीन 649.12  
**व्यर्थ कार्य**  
 व्यर्थ कार्य 508.3 ⇌  
**व्यर्थतः**  
 असफलतः 513.5  
 प्रयोजनहीनतः 509.5  
**व्यर्थता**  
 अनावश्यकता 525.3  
 अनुपयोगिता 525.2  
 असफलता 513.1  
**व्यर्थ ही**  
 प्रयोजनहीनतः 509.5  
**व्यर्थ होना**  
 लक्ष्य च्युत होना 931.19

**बलीक**  
अप्रियता 370.1  
**बबकलन**  
घटान कर्म 954.8  
**बबकलित**  
घटाया [घटाई] 954.14  
**बबच्छिन्न**  
कर्तित 543.14  
**बबच्छेद**  
भाग कर्म 955.13  
**बबच्छेदक**  
कोटिकरण कर्ता 936.14  
विलग्नक 1011.6  
विश्लेषक 427.33  
**बबच्छेदन**  
क्रम विस्थापना 992.2  
विच्छेदन 543.11  
**बबधान**  
अंतराल 33.9  
अवरोध 1047.8  
विघ्न 1047.12  
**बबधानहीनता**  
अवरोधहीनता 1049.4  
**बबसाय**  
अध्यवसाय 489.4  
कर्म 504.1  
कार्य 506.1  
प्रयोजन 508.1  
*व्यवसाय 850.9 ⇨*  
व्यापार 657.1  
**बबसाययुक्त**  
आपीविकायुक्त 650.18  
**बबसायहीन**  
आपीविकाहीन 649.11  
**बबसायहीनता**  
आपीविकाहीनता 649.3  
**बबसायात्मक**  
आपीविकीय 650.17  
**बबसायिता**  
*व्यवसायिता 850.10 ⇨*  
**बबसायी**  
अध्यवसायी 489.10  
उद्यमी 557.2  
*व्यवसायी 850.24 ⇨*  
व्यापारी 657.2  
**बबस्था**  
अनुबंध 339.1  
कार्य विधि 514.1  
कृषि युक्ति व्यवस्था 553.1  
क्रम 991.1  
धर्म आदेश 742.7  
धर्म विधि 747.3  
निर्णय 328.4  
न्याय निर्णय 877.14  
प्रबंध 655.5  
लोक व्यवहार नियम 878.2  
*व्यवस्था 883.5 ⇨*  
शासन 890.1

संविधान 878.16  
**बबस्था करना**  
व्यवस्थापित करना 893.8  
**बबस्था टूटना**  
अव्यवस्थित होना 894.6  
**बबस्था संज्ञ**  
शासन संज्ञ 890.2  
**बबस्थाता**  
निर्णय कर्ता 328.13  
प्रबंधक 655.9  
व्यवस्थापक 893.14  
शासक 890.5  
**बबस्थान**  
व्यवस्थापना 893.7  
**बबस्थापक**  
क्रमबद्ध कर्ता 991.27  
निर्णय कर्ता 328.13  
परिषद सदस्य 889.8  
प्रबंधक 655.9  
विधिज्ञ 878.13  
*व्यवस्थापक 893.14 ⇨*  
**बबस्थापत्र**  
प्रक्रिया पुस्तक 446.22  
**बबस्थापन**  
क्रमबद्धन 991.16  
निर्धारण 328.6  
प्रबंधन 655.6  
शासन कर्म 890.3  
संस्थापना 893.1  
**बबस्थापना**  
*व्यवस्थापना 893.7 ⇨*  
यूह रचना 907.9  
संस्थापना 893.1  
**बबस्थापिका**  
विधान परिषद 889.5  
**बबस्थापिका**  
अनुबंधित 339.32  
निर्धारित 328.14  
दियायित 878.31  
व्यवस्थित 893.13  
**बबस्थापित करना**  
*व्यवस्थापित करना 893.8 ⇨*  
**बबस्थापितता**  
व्यवस्थिततः 893.17  
**बबस्थापूर्वक**  
व्यवस्थिततः 893.17  
**बबस्था विषयक**  
*व्यवस्था विषयक 893.12 ⇨*  
**बबस्था स्थापना**  
व्यवस्थापना 893.7  
**बबस्थाहीन**  
अव्यवस्थित 894.9  
क्रमहीन 992.5  
**बबस्थाहीनता**  
क्रमहीनता 992.7  
**बबस्थाहीनता**  
अव्यवस्थितता 894.5  
क्रमहीनता 992.1

**बबस्थित**  
क्रमिक 991.21  
नियंत्रित 899.24  
प्रबंधित 655.23  
विधि संगत 514.14  
विन्यस्त 527.22  
*व्यवस्थित 893.13 ⇨*  
यूहबद्ध 907.46  
शासित 890.18 •  
सुलझा [सुलझी] 574.15  
**बबस्थित करना**  
व्यवस्थापित करना 893.8  
**बबस्थिततः**  
*व्यवस्थिततः 893.17 ⇨*  
**बबस्थितता**  
क्रमिकता 991.2  
*व्यवस्थितता 893.6 ⇨*  
**बबस्थित पलायन**  
पीछे हटना कर्म 916.6  
**बबस्थित समूह**  
*व्यवस्थित समूह 890.5 ⇨*  
**बबस्थीय**  
व्यवस्था विषयक 893.12  
**बबस्थापन**  
उपभोक्ता 524.16  
व्यवस्थापक 893.14  
व्यापारी वैश्य 731.28  
**बबहार**  
आचरण 808.1  
उपभोग 524.1  
कार्य 506.1  
कार्यान्वयन 505.5  
परंपरा 795.1  
*व्यवहार 703.2 ⇨*  
*व्यवहार 828.1 ⇨*  
व्यापार 657.1  
संगति 696.1  
संबंध 715.1  
साहूकारा 633.3  
**बबहार अकुशल**  
*व्यवहार अकुशल 829.9 ⇨*  
**बबहार अकुशलता**  
*व्यवहार अकुशलता 829.2 ⇨*  
**बबहार करना**  
*व्यवहार करना 828.5 ⇨*  
**बबहार कुशल**  
*व्यवहार कुशल 828.10 ⇨*  
**बबहार कुशलता**  
*व्यवहार कुशलता 828.3 ⇨*  
**बबहार कुशल होना**  
*व्यवहार कुशल होना 828.7 ⇨*  
**बबहार कौशल**  
व्यवहार कुशलता 828.3  
**बबहार गणित**  
अंक गणित 953.1  
**बबहारज्ञ**  
वकील 874.26  
व्यवहार कुशल 828.10

**बबहार लोकना**  
बहिष्कार करना 870.20  
**बबहार भाव**  
निर्णय प्रज्ञ 324.15  
**बबहार बुद्धि**  
व्यवहार कुशलता 828.3  
**बबहार में लाना**  
उपभोग करना 524.10  
**बबहार रेखा**  
मर्यादा रेखा 608.6  
**बबहार विषयक**  
व्यवहारीय 828.8  
**बबहार शैली**  
शिष्टता 733.7  
**बबहार सिद्धि**  
नैयामिक निपटारा 877.11  
**बबहारहीन**  
अपरस्पर 697.18  
**बबहारहीनता**  
अपरस्परता 697.7  
व्यवहार अकुशलता 829.2  
**बबहार होना**  
*व्यवहार होना 703.7 ⇨*  
**बबहारी**  
व्यवहार कुशल 828.10  
व्यावहारिक 828.9  
शिष्ट 733.18  
**बबहारीय**  
*व्यवहारीय 828.8 ⇨*  
**बबहार्य**  
उपयोगी 524.18  
साध्य 518.16  
**बबहृत**  
आचरित 808.12  
उपभुक्त 524.14  
**बबहृतता**  
भुक्तता 363.2  
बबहृत न करना  
उपभोग न करना 525.5  
बबहृत न होना  
उपभुक्त न होना 525.4  
बबहृत होना  
उपभुक्त होना 524.9  
**बबहृति**  
उपभोग 524.1  
**बबहृत्य**  
उपभोग्य 524.15  
**बबेता**  
अंतगत 995.12  
**बबेति**  
व्यक्ति 689.1  
**बबेतिव्य**  
वैयक्तिकता 689.2  
**बबेटीय**  
वैयक्तिक 689.3  
**बबसन**  
आसक्ति 365.1  
कुव्यसन 812.7

## व्यसन त्याग

प्रिय वस्तु 369.2  
 मद सेवन 211.6  
**व्यसन त्याग**  
 व्यसन त्याग 813.8 ⇨  
**व्यसन त्यागना**  
 व्यसन त्यागना 813.8 ⇨  
**व्यसनहीन**  
 व्यसनहीन 813.14 ⇨  
**व्यसनहीनता**  
 व्यसनहीनता 813.5 ⇨  
**व्यसन होना**  
 कुव्यसनी होना 812 10  
**व्यसनी**  
 अध्यवसायी 489.10  
 आसक्त 365.5  
 कुव्यसनी 812.16  
 मदासक्त 211.14  
**व्यस्त**  
 अपनीत 1053.13  
 अव्यवस्थित 894.9  
 विलग्न 1011.5  
 व्यस्त 502.13 ⇨  
 संचालित (शस्त्र) 930 18  
**व्यस्तता**  
 व्यस्तता 502.4 ⇨  
**व्यस्त न होना**  
 व्यस्त न होना 503.8 ⇨  
**व्यस्त होना**  
 व्यस्त होना 502.8 ⇨  
**व्याकरण**  
 वेदांग सूची 740.41  
 व्याकरण 425.1 ⇨  
 संभागीकरण 937 2  
**व्याकरणज्ञ**  
 व्याकरणज्ञ 425.2 ⇨  
**व्याकरणातीत शब्द**  
 निपात शब्द 423.8  
**व्याकीर्ण**  
 विकेंद्रित 971.22  
**व्याकीर्णक**  
 विविध संग्रह 669.3  
**व्याकीर्णन**  
 विकिरण 288 5  
**व्याकुल**  
 उत्पीडित 391.28  
 उद्दिग्ण 377.13  
 ऊँची लहरों वाला 1040.33  
 कंपित 1039.20  
 गतिशील 1042.11  
 धिताग्रस्त 377 10  
 पीकाग्रस्त 392.28  
 शोकग्रस्त 383.8  
**व्याकुलता**  
 उद्दिग्णता 377.4  
**व्याकुल होना**  
 उद्दिग्ण होना 377.7  
 कुलबुलाना 392.17

**व्याकृत**  
 अभिव्यक्त 428.17  
 परिचित 532.18  
**व्याकृता वाचा**  
 व्याकृता वाचा 299.2 ⇨  
**व्याकृता वाणी**  
 व्याकृता वाचा 299.2  
**व्याक्रोश**  
 आक्रोश 373.3  
 क्रोध 373.1  
**व्याक्षिप्त**  
 उन्मत्त 354.22  
**व्याक्षोभ**  
 झटकरं 169.3  
**व्याख्या**  
 परिभाषा 317.1  
 व्याख्या 427.15 ⇨  
 व्याख्या पुस्तक 446.31  
**व्याख्या करना**  
 व्याख्या करना 427.22 ⇨  
**व्याख्या कर्म**  
 व्याख्यायन 427.16  
**व्याख्याकार**  
 व्याख्याता 427.32  
**व्याख्यात**  
 अभिव्यक्त 428.17  
 परिभाषित 317.17  
 वर्णित 449.24  
 सविस्तार विवृत 449 29  
**व्याख्याता**  
 भाषण दाता 430.23  
 लेखवरर 323.18  
 वर्णन कर्ता 449.27  
**व्याख्याता 427.32 ⇨**  
**व्याख्यान**  
 भाषण 430.8  
 वर्णन 449.1  
 व्याख्यायन 427.16  
 शिक्षकीय प्रवचन 322.6  
 शिक्षण 321.18  
**व्याख्यान शाला**  
 भाषण कक्ष 695.2  
**व्याख्या पुस्तक**  
 व्याख्या पुस्तक 446.31 ⇨  
**व्याख्यायन**  
 व्याख्यायन 427.16 ⇨  
**व्याघात**  
 आघात 169.2  
 आहत 168.1  
 ठेस 1051.17  
 प्रहार 918.1  
 संकट 909.1  
**व्याघाती**  
 प्रहारक 918.31  
**व्यापूर्ण**  
 परिष्कृता 1033.3  
**व्याघोष**  
 गड़गड़ाहट 297.10

**व्याघ्र**  
 उत्तमता: उपमान सूची 313.4  
 बाघ 127.55  
**व्याघ्र अजिन**  
 व्याघ्र अजिन 582.14 ⇨  
**व्याघ्र चर्म**  
 व्याघ्र अजिन 582.14  
**व्याघ्र नखी**  
 नखी 274.23  
**व्याघ्रमुख**  
 नर बिल्ली 127.57  
**व्याघ्रावर**  
 व्याघ्र अजिन 582.14  
**व्याघ्राक्ष**  
 राक्षस सूची 784.4  
**व्याघ्राजिन**  
 मृगछाला आदि सूची 595.5  
 व्याघ्र अजिन 582.14  
**व्याज**  
 कारण 507.3  
 व्याज 633.10 ⇨  
**व्याज जीविता**  
 व्याज जीविता 633.5 ⇨  
**व्याजजीवी**  
 व्याजजीवी 633.33 ⇨  
**व्याज दाता**  
 ऋणी 633.75  
**व्याज विदा**  
 व्याज विदा 843.3 ⇨  
**व्याज प्रदांसक**  
 व्याज प्रदांसक 841.32 ⇨  
**व्याज प्रदांसा**  
 व्याज प्रदांसा 841.3 ⇨  
**व्याजयुक्त**  
 व्याजयुक्त 633.37 ⇨  
**व्याज स्तुति**  
 व्याज प्रदांसा 841.3  
**व्याजाह्वय**  
 छद्म नाम 315.6  
**व्याजी**  
 ब्राह्म आकर्मणः अतिरिक्त नत्स 661.9  
**व्याजोक्ति**  
 कुटिल भाषण 432.5  
**व्याड**  
 आखेटक जीव 252.3  
 ईर्ष्यासु 709.6  
 निंदक 843.22  
**व्याधान**  
 विस्फारण 119.5  
**व्याधेश**  
 निर्दश 347.4  
**व्याध**  
 आखेटक 252.2  
 जरा व्याध 771.57  
**व्याधि**  
 रोग 163.1  
 शारीरिक पीका 392.4

**व्याधिकार**  
 व्याधिव्याहर 162.8  
**व्याधिष्ण**  
 अनलतास 13.3  
**व्याधित**  
 रोगग्रस्त 162.5  
**व्याधि मंथिर**  
 शरीर 139.1  
**व्याधिहर**  
 स्वास्थ्यप्रद 161.6  
**व्याधिहीन**  
 स्वस्थ 161.5  
**व्यान**  
 पंचप्राण सूची 245.3  
**व्यानत**  
 अवनमित 1025.8  
**व्यापक**  
 प्रसारित 979.17  
 व्यापक 981.12 ⇨  
 सर्वतोमुखी 29.29  
**व्यापकता**  
 व्यापकता 981.3 ⇨  
 सर्वतोमुखता 29.8  
**व्यापक युद्ध**  
 महायुद्ध 905.8  
**व्याप जाना**  
 गहन प्रभाव छोड़ना 511.12  
**व्यापति**  
 अक्षर लोप 411.3  
**व्यापन**  
 व्यापि 981.5  
**व्यापना**  
 व्याप्त होना 981.8  
**व्यापन शब्द**  
 रूपांतरित शब्द 423.10  
**व्यापार**  
 कार्य 506.1  
 गतिविधि 502.2  
 घटना 75.1  
 प्रयत्न 489.1  
 विपणन 658.1  
 व्यवसाय 650.9  
 व्यापार 657.1 ⇨  
**व्यापार अध्यास**  
 व्यापार अध्यास 657.3 ⇨  
**व्यापार विद्वान्**  
 ट्रेडमार्क 621.17  
 व्यापार विद्वान् 408.3 ⇨  
**व्यापारण**  
 प्रवर्तन 693.3  
**व्यापार ब्रह्म**  
 पण्य स्तानाम 666.5  
**व्यापार नाम**  
 ट्रेडनेम 621.16  
**व्यापार मंडल**  
 व्यापार संघ 692.17  
**व्यापार यात्रा**  
 सार्व यात्रा 657.12

व्यापार बाबु	संस्कृत विश्रण 1008.4	प्रवर्तन 893.3	व्याहरण
समुद्र समीर 85.18	व्याभिन	मरोकन 975.12	कथन 430.1
व्यापार संघ	सन्मिश्रित 1008.26	व्यावसायिक	व्याहृत
व्यापार संघ 892.17 ⇨	व्यामोह	आजीविकीय 850.17	कथित 430.16
व्यापार संघ अध्यक्ष	आसक्ति 365.1	व्यापारीय 857.16	व्याहृति
व्यापार संघ अध्यक्ष 892.18 ⇨	माया दर्शन 342.4	व्यावहारिक	उक्ति 434.1
व्यापारहीन	सम्बोध 367.1	व्यवहारीय 828.8	कथन 430.1
आजीविकाहीन 649.11	व्यायाम	व्यावहारिक 828.9 ⇨	व्याहृति 741.17 ⇨
व्यापारिक	परिश्रम 493.1	व्यावहारिक ज्ञान	व्याहृति सूची
व्यापारीय 657.16	व्यायाम 485.1 ⇨	व्यावहारिक ज्ञान 305.11 ⇨	व्याहृति सूची 741.24 ⇨
व्यापारिकतापूर्ण	व्यायाम विकिरत्ता	व्यावहारिकता	व्युच्छिन्न
व्यापारिकतापूर्ण 657.17 ⇨	व्यायाम विकिरत्ता 172.19 ⇨	व्यवहार कुशलता 828.3	उन्मूलित 548.57
व्यापारिक नगर	व्यायाम प्रशिक्षक	व्यावहारिकता 828.2 ⇨	व्युच्छेद
व्यापारिक नगर	व्यायाम प्रशिक्षक 485.3 ⇨	व्यावहारिक न होना	विच्छेदन 543.11
व्यापारिक नगर 620.17 ⇨	व्यायाम प्रशिक्षण	व्यावहारिक न होना 829.7 ⇨	व्युत्क्रम
व्यापारिक नौकायन	व्यायाम प्रशिक्षण 485.2 ⇨	व्यावहारिक होना	अवरोह क्रम 991.4
मर्वेट नदी 1072.42	व्यायाम शाला	व्यावहारिक होना 828.6 ⇨	क्रम विस्थापना 992.2
व्यापारिक नौका सेवा	कुरती मैदान 482.11	व्यावृत्त	क्रमहीनता 992.1
मर्वेट नदी 1072.42	जिमनेत्रियम 482.21	आच्छादित 592.13	व्युत्थान
व्यापारिक मंदी	व्यायामी	व्यावृत्त	प्रयत्न 489.1
व्यापारिक मंदी 664.13 ⇨	कसरती 180.14	उँटा [उँटी] 1009.20	विद्रोह 903.3
व्यापारिक मंदी होना	व्यारोष	व्यावृत्ति	व्युत्पत्ति
मंदी होना 864.23	ईर्ष्या 709.1	एक चक्रावृत्ति 1033.13	उत्पत्ति 546.5
व्यापारिक महँगाई	व्यार्त	चक्रावृत्ति 71.4	उत्क्रोत 21.1
व्यापारिक महँगाई 664.14 ⇨	कष्टग्रस्त 392.21	व्यासंग	जन्म 248.1
व्यापारिक संघ	दुःखी 391.24	लालसा 359.5	शब्द व्युत्पत्ति 423.2
कर्म संघ 892.16	व्याल	व्यास	व्युत्पत्ति सहित व्याख्या 427.18 ⇨
व्यापारित	ईर्ष्यालु 709.6	कथा उद्घोषक 487.3	व्युत्पन्न
विपणित 858.13	कुटिल 818.7	कथा वाचक 749.19	उत्पन्न 546.9
व्यापारी	शीता 127.53	चक्र. आधा भाग 980.2	व्युत्पादक
व्यापारी 857.2 ⇨	निंदक 843.22	चीकाई 985.4	उत्पादक 546.13
व्यापारीय 857.16	बटमार 864.34	छिद्र माप 271.14	व्युत्पादन
व्यापारी क्रसल	बाघ 127.55	पद अन्वय 427.5	व्युत्पत्ति सहित व्याख्या 427.18
नक्रुदी क्रसल 547.3	भयानक 395.25	पुरोहित 744.11	व्युत्पादित
व्यापारीय	वन्य पशु 127.2	मोटाई 985.8	उत्पादित 546.12
व्यापारीय 857.16 ⇨	विष्णु 788.1	विस्तार 981.2	व्युत्सेक
व्यापारी वैश्य	सर्प 123.10	वेद व्यास 789.21	छिन्नकाव 668.7
व्यापारी वैश्य 731.26 ⇨	सिंह 127.50	व्यास 972.12 ⇨	फुहार सिक्कन 548.15
व्यापारी वैश्य स्त्री	हिंस्र जीव 121.14	व्यास (वे.)	व्युत्सास
व्यापारी वैश्य स्त्री 731.27 ⇨	व्यालसा	घतुर्भुज. व्यास 988.36	प्रलेप 1052.1
व्यापी	निकृष्टता 314.1	व्यास देव	व्युत्पदेश
आच्छादन कर्ता 592.14	व्याल रूप	वेद व्यास 789.21	बहाना (मकर) 495.4
विष्णु 788.1	शिव 787.1	व्यास मुर्ति	व्युत्परम
व्यापक 981.12	व्यालानुबुध	शिव 787.1	विराम 1048.1
व्यापृत्ति	नखी 274.23	व्यास सूत्र	व्यूजर
गतिविधि 502.2	व्यालिक	ब्रह्म सूत्र 740.45	व्यूजर 283.10 ⇨
व्याप्त	सैपरा 473.25	व्यास स्मृति	व्यूजर (जी)
प्रसारित 979.17	व्याली	व्यास स्मृति 740.59 ⇨	दर्शक 399.4
भरा [भरी] 1004.12	शिव 787.1	व्यासार्थ	व्यूजर 283.10
वेष्टित 592.17	व्यालोल	अर्थ व्यास 972.14	व्यूक
व्यापक 981.12	संचल 1037.10	व्यापिद्ध	अत्यधिक 944.7
व्याप्त करना	व्यावकलन	धर्म निबिद्ध (आहार) 198.12	प्रसारित 979.17
व्याप्त होना 981.8	घटान कर्म 954.6	व्याहृत	व्यूहबद्ध 907.46
व्याप्तता	व्यावर्त	आहत 188.6	व्युत्
व्यापकता 981.3	नरोद 975.11	प्रहारित 918.30	बुना [बुनी] 576.27
व्याप्त होना	व्यावर्तन	भयभीत 395.19	सिंहा [सिंही] 577.28
व्याप्त होना 981.8 ⇨	अपनयन 1053.3	नारा [नारी] 251.23	
व्याप्ति	प्रतिवर्तन 532.9		
व्याप्ति 981.5 ⇨			

## व्यूति

### व्यूति

- बुनाई कर्म 576.1  
 व्यू क्राइंडर  
 व्यू क्राइंडर 283.11 ⇨  
 व्यू क्राइंडर (अं)  
 व्यू क्राइंडर 283.11  
 व्यूह  
 कूट पास 1013.9  
 तर्क 325.1  
 भ्रामक मार्ग 1063.5  
 शरीर 139.1  
 समूह 690.1  
 सेना व्यूह 907.8  
 व्यूहन  
 व्यूह रचना 907.9  
 स्थान परिवर्तन 1036.1  
 व्यूह पृष्ठ  
 सेना पृष्ठ 933.3  
 व्यूहबद्ध  
 व्यूहबद्ध 907.46 ⇨  
 व्यूह बद्धन  
 व्यूह रचना 907.9  
 व्यूह बनाना  
 व्यूह रचना करना 907.37  
 व्यूह रचना  
 व्यूह रचना 907.9 ⇨  
 व्यूह रचना करना 907.37  
 व्यूह रचना करना  
 व्यूह रचना करना 907.37 ⇨  
 व्यूह रचेता  
 व्यूह रचेता 907.47 ⇨  
 व्यूहित  
 व्यूहबद्ध 907.46  
 व्योम  
 आकाश 2 1  
 व्योमकेश  
 शिव 767.1  
 व्योम गंगा  
 आकाश गंगा 1 14  
 व्योमगानी  
 आकाश पिंड 3.1  
 उड्डयनशील 1030.32  
 नभोत्तरित 1081.51  
 विद्याधर 779.15  
 संत 790.9  
 व्योमगुण  
 ध्वनि 294.1  
 व्योमचर  
 उड्डयनशील 1030.32  
 पक्षी 126.1  
 विद्याधर 779.15  
 व्योमचारी  
 आकाश पिंड 3.1  
 संत 790.9  
 साधु संन्यासी 790.1  
 व्योम देव  
 शिव 767.1

- व्योम ध्वनि  
 आकाश वाणी 465.5  
 व्योम यान  
 विमान 1074.10  
 व्योमीय  
 आकाशीय 2.7  
 व्योमीयक  
 वर्षा जल 88.5  
 व्योहरिया  
 साहूकार 633.4  
 ब्रज  
 चरागाह 556.10  
 पर्यटन 1090.6  
 यात्रा 1087.1  
 ब्रजक  
 पर्यटक 1090.7  
 ब्रजन  
 गमन 1091.1  
 गस्ता 1083.16  
 पर्यटन 1090.6  
 विचरण 1085.1  
 ब्रज रास  
 रास लीला 771.25  
 ब्रजित  
 गत 1091.8  
 ब्रज्या  
 आक्रमण 914.3  
 उत्सव स्थान 56.4  
 कोटि 936.1  
 गति 1042.1  
 गमन 1091.1  
 तपस्या 756.21  
 पर्यटन 1090.6  
 भिक्षाटन 642.3  
 रंगभूमि 471.13  
 संन्यास आश्रम 233.6  
 ब्रज्या ग्रहण  
 संन्यास प्रवेश 233.8  
 ब्रज्या लेना  
 संन्यास लेना 233.9  
 ब्रज  
 ब्रज 167.12 ⇨  
 ब्रज (वे.)  
 फोका 167.2  
 ब्रज अंकुर  
 ब्रज अंकुर 167.13 ⇨  
 ब्रज अंगूर  
 ब्रज अंकुर 167.13  
 ब्रज खुरंड  
 ब्रज खुरंड 167.14 ⇨  
 ब्रज क्षितक  
 ब्रज शल्यक 174.13  
 ब्रज चिकित्सा  
 ब्रज शल्य 174.12  
 ब्रज पट्टी  
 ब्रज पट्टी 174.16 ⇨  
 ब्रज पूय  
 पूय 167.16

- ब्रज शल्य  
 ब्रज शल्य 174.12 ⇨  
 ब्रज शल्यक  
 ब्रज शल्यक 174.13 ⇨  
 ब्रजगारि  
 वील 274.28  
 ब्रत  
 अभोजन 181.5  
 आचरण 808.1  
 उपवास दिवस 748.5  
 कर्म 504.1  
 दृढ प्रतिज्ञा 339.18  
 प्रतिज्ञा 339.17  
 मर्यादा 808.5  
 संकल्प 500.1  
 साधना 303.7  
 ब्रत अनुष्ठान  
 संकल्पन 500.2  
 ब्रत उपवास  
 धर्म कर्म 747.1  
 ब्रत उपवास 748.1 ⇨  
 ब्रत: उपहार  
 उपवास: उपहार 748.16  
 ब्रत करना  
 उपवास रचना 748.17  
 ब्रतचर्या  
 संकल्पन 500.2  
 ब्रतचारी  
 उपवासक 748.19  
 ब्रत दिवस  
 उपवास दिवस 748.5  
 ब्रत धारक  
 संकल्प कर्ता 500.11  
 ब्रत धारण  
 संकल्पन 500.2  
 ब्रत धारण  
 उपवास अंत 748.10  
 संकल्प पूर्ति 500.3  
 ब्रत भंग  
 विचलन 501.4  
 ब्रत रचना  
 उपवास रचना 748.17  
 ब्रत लेना  
 संकल्प करना 500.6  
 ब्रतस्थ  
 संकल्प कर्ता 500.11  
 ब्रतस्नातक  
 पूर्तसंकल्प 500.12  
 ब्रत स्नान  
 संकल्प पूर्ति 500.3  
 ब्रतांत  
 उपवास अंत 748.10  
 संकल्प पूर्ति 500.3  
 ब्रतांत करना  
 उपवास अंत करना 748.18  
 ब्रतांत भोजन  
 उपवास: अंत भोजन 748.15

- ब्रताचारी [ब्रताचारिणी]  
 संकल्प कर्ता 500.11  
 ब्रताचर  
 उपवास आरंभ 748.9  
 ब्रताहार  
 उपवास आहार 748.13  
 ब्रतिनी  
 साधु स्त्री 790.17  
 ब्रती  
 उपवासक 748.19  
 ब्रह्मचारी 234.4  
 यजमान 743.6  
 संकल्प कर्ता 500.11  
 ब्रती होना  
 उपवास रचना 748.17  
 ब्रतोपनयन  
 उपनयन संस्कार 798.20  
 ब्रतोपवास  
 ब्रत उपवास 748.1  
 ब्रतोपहार  
 उपवास: उपहार 748.16  
 ब्रतोपायन  
 उपवास आरंभ 748.9  
 ब्रत्य  
 उपवास आहार 748.13  
 ब्रजक  
 परिब्राजक संन्यासी 790.14  
 संन्यासी 790.11  
 ब्रजकता  
 संन्यास आश्रम 233.6  
 ब्रजक संन्यासी  
 परिब्राजक संन्यासी 790.14  
 ब्रजि  
 तूफान 85.8  
 ब्रजिका  
 संन्यासिनी 790.12  
 ब्रत  
 कुलीगिरी 1061.3  
 दल 691.1  
 परिश्रम 493.1  
 रोषधारी 643.15  
 वरयात्रा 800.43  
 संघ 692.13  
 समूह 690.1  
 ब्रतपति  
 संघ अध्यक्ष 692.14  
 ब्रतीन  
 दलधर 696.12  
 रोषधार 643.17  
 ब्रत्य  
 दलधर्या 696.11  
 संकल्प कर्ता 500.11  
 संकल्पनीय 500.9  
 ब्रिका  
 लज्जा 845.1  
 ब्रिकित  
 लज्जित 845.10



श्रीहि  
अनाप 187.1  
श्रीही  
धान सूची 187.12  
श्रीदेव  
धान: खेत 551.7  
काइट कीलर्ड वर्कर (अं)  
कार्यालय कर्मी 652.34  
काइट वैजिक (अं)  
उपकारक जादू 474.8  
काइट वाहन (अं)  
सफ़ेद वाहन 209.17  
खिप (अं)  
सभेतक 889.13  
खिपिल (अं)  
सीटी 461.90  
खिस्की  
खिस्की 209.20 ⇨  
खिस्की (अं)  
खिस्की 209.20  
कील (अं)  
घरखी झूला 1034.10  
पडिया 1077.1  
कील घेयर (अं)  
अपाहिज गाडी 1070.12  
कील बेरो (अं)  
इकपडिया ठेला 1071.8  
खेल  
खेल 124.8 ⇨  
खेल (अं)  
खेल 124.8  
खेल नीका  
मधुआरी नाप 1072.30

शं

शंकीय  
संदिग्य 341.9  
शंकर  
कल्याणकारी 710.21  
राग रागिनी सूची 457.24  
शिव 767.1  
शंकरप्रिय  
तीतर 126.43  
शंकरबाब  
अद्वैतवाद 760.8  
शंकराचार्य वाद 737.61  
शंकर ब्वाचुर  
हिमालय 17.7  
शंकरा  
पार्वती 776.9  
शंकराचार्य  
मठाधीन 744.1  
शंकराचार्य बाब  
अद्वैतवाद 760.8  
शंकराचार्य बाब 737.61 ⇨  
शंकराधरण  
राग रागिनी सूची 457.24

शंकराभास  
केलास शिखर 17.2  
शंकरी  
पार्वती 776.9  
शंका  
आपति 326.4  
आशंका 377.1  
दुबिया 501.1  
संदेह 341.3  
हिचक 501.3  
शंका आशंका  
विमर्श 330.11  
शंका करना  
पूछना 333.19  
संदेह करना 341.5  
शंकाग्रस्त  
दुबिधाजनक 501.9  
शंकाग्रस्तता  
अविश्वास 341.1  
दुबिधाग्रस्तता 501.2  
शंकाजनक  
संदिग्य 341.9  
शंका निवारक तर्क  
वितर्क 325.4  
शंका निवारण करना  
आपति निवारण करना 326.10  
शंकापूर्वक  
संदेहपूर्वक 341.11  
शंकाप्रब  
संदिग्य 341.9  
शंकाशु  
आशंकाशील 377.9  
संदेहशील 341.10  
शंकाशील  
संदेहशील 341.10  
शंका समाधान  
आपति निवारण 326.6  
उत्तर 334.1  
शंकाहीन  
अनाशंकित 376.7  
आपतिहीन 326.21  
संदेहहीन 340.20  
शंकाहीनता:  
संदेहहीनता: 340.23  
साहसपूर्वक 394.18  
शंकाहीनता  
अनाशंका 376.1  
आपतिहीनता 326.5  
संदेहहीनता 340.6  
शंकितता:  
संदेहपूर्वक 341.11  
शंकित होना  
संदेह करना 341.5  
शंकी  
आशंकाशील 377.9  
संदेहशील 341.10  
शंकु  
कामदेव 773.12

कील 1016.6  
खूँटा 555.11  
दीवार: खूँटी 1016.17  
बाण 926.16  
बाण: अग्रभाग 926.18  
ब्रह्मा: पुत्र सूची 766.10  
भाला 925.4  
राक्षस 784.1  
ऐखिक मापी 959.3  
शंकु 977.11 ⇨  
शाखापल्लवहीन तना 114.8  
सूध्याकार स्तंभ 607.10  
शंकुला  
सरीता 561.11  
शंकु कुल  
साल 13.26  
शंकोत्पादक  
संदिग्य 341.9  
शंख्य  
संदिग्य 341.9  
शंख  
आठ नागराज सूची 776.18  
ब्रह्मा: पुत्र सूची 766.10  
मंगल बाघ सूची 796.12  
शंकु 977.11  
शंख 124.18 ⇨  
शंख 461.78 ⇨  
सूध्याकार स्तंभ 607.10  
हस्त खिस्म सूची 261.38  
शंख (वे.)  
शंख 124.18  
शंख असुर हंता  
मत्स्य अवतार 769.32  
शंखक  
मस्तक 140.12  
शंख 461.78  
शंखकधारी  
विष्णु 766.1  
शंखचूड  
दानव सूची 763.13  
शंखधर  
कृष्ण 771.1  
शंखध्मा  
शंख वादक 461.81  
शंखनखी  
नखी 274.23  
शंखनाब  
आरंभ संकेत सूची 521.8  
युद्ध घोषणा 907.14  
शंखप्राणि  
विष्णु 766.1  
शंख कुकना  
युद्ध आरंभ करना 907.35  
शंखरिखित  
परिपूर्ण 313.14  
शंख वधु  
सीपी 124.19

शंख वात  
सिरपद 392.6  
शंख वादक  
शंख वादक 461.81 ⇨  
शंखाकार  
शंखाकार 974.20 ⇨  
शंखाकारता  
शंखाकारता 974.6 ⇨  
शंखिनी  
अप्सरा 782.2  
स्त्री भेद सूची 236.6  
शंखिल  
शंखाकार 974.20  
शंखिलता  
शंखाकारता 974.6  
शंखी  
शंख वादक 461.81  
समुद्र 24.1  
शंख  
अंतपुर वास 651.9  
नपुंसक 238.18  
शंखील  
श्रुति गुनि सूची 789.17  
शंतनु  
शांतनु 771.89  
शंपा  
मेघ विद्युत 55.9  
शंपाक  
अमलतास 13.3  
शंप  
इंद्र वध 928.8  
सौभाग्यशाली 260.33  
शंपर  
अवरोध 1047.8  
असुर सूची 783.8  
जल 88.1  
दानव सूची 793.13  
दैन्य सूची 783.19  
मेघ 55.1  
राक्षस सूची 784.4  
लोभ 14.24  
व्रत उपवास 748.1  
सौभर 127.48  
शंपर कंद  
जर्नीकंद 189.21  
शंपरतकर  
कामदेव 773.12  
शंपरारि  
इंद्र 773.5  
प्रद्युम्न 771.73  
शंपरी  
माया 782.9  
शंपल  
ईर्ष्या 709.1  
शंपली  
कुटनी 807.11  
शंपा  
शनिवार 46.9

## शंभु

### शंभु

घोंघा 124.16

### शंभुक

शंख 461.78

### शंभुक

घोंघा 124.16

दत्त सूची 783.19

शंभुक 770.57 ⇨

### शंभुल

कल्कि: आवास 769.18

### शंभु

श्रद्धा 789.2

गीतम बुद्ध 783.1

इन्द्रा 766.1

शिव 767.1

समृद्धिप्रद 626.12

सिद्ध साधु 790.30

### शंभुप्रिया

दुर्गा 776.7

### शंभुसुत

गणेश 773.22

### शंभु

रुद्र सूची 767.36

### शंसन

वर्णन 449.1

### शंसा

ख्याति 847.1

प्रतिज्ञा 339.17

प्रशंसा 841.1

### शंसित

प्रशंसित 841.29

### शंसी

प्रशंसक 841.31

बंदीजन 841.15

### शंस्य

प्रशंसनीय 841.30

### शंकर

विवेक 301.7

शिष्टता 733.7

सम्प्रीकरण 733.1

### शंकरदार

शिष्ट 733.18

सम्य 733.13

### शक

आशंका 377.1

दुबिधा 501.1

भ्रम 342.1

शक जाति 732.11

संदेह 341.3

### शक जाति

शक जाति 732.11 ⇨

### शक जातीय

शक जातीय 732.21 ⇨

### शकट

असुर सूची 783.8

जर्जर गाड़ी 1071.31

ठेला 1071.6

### शकटक

ठेला 1071.6

### शकटारि

कृष्ण 771.1

### शकटिका

छोटी बैलगाड़ी 1071.43

### शकटी

मिट्टी की गाड़ी 480.5

### शक द्वीप

पौराणिक महाद्वीप सूची 26.7

### शकर

चीनी 280.16

### शकरकंद

शकरकंदी 189.34

### शकरकंदी

शकरकंदी 189.34 ⇨

साग सक्की सूची 189.4

### शकरक्योरा

शकरक्योरा 126.71 ⇨

### शकर पाका

शकर पाका 203.41 ⇨

### शकर पाला

शकर पाका 203.41

### शकर भावान

खुबानी 191.6

### शकरम

ऊँट गाड़ी 1071.35

### शकल

खंड 938.1

मत्स्य शकल 134.18

### शकलित

भंजित 539.12

### शकली

मछली 125.1

### शक संवत

शक संवत 42.3 ⇨

### शक संवत में

शक संवत में 42.30 ⇨

### शकाब्द

शक संवत 42.3

### शकार

विदूषक 467.19

शकार 467.20 ⇨

### शकुंत

गिद्ध 126.26

घाघ 126.40

नीलकंठ 126.46

पक्षी 126.1

### शकुंतक

छोटा पक्षी 126.3

### शकुंतिका

मादा पक्षी 126.2

### शकुन

पक्षी 126.1

शकुन 262.1 ⇨

शकुन अपशकुन: विश्वास

भ्रम विश्वास 340.3

### शकुनज्ञ

शकुनज्ञ 262.17 ⇨

### शकुनज्ञा

छिपकली 123.7

### शकुन दर्शन

आशंका दर्शन 342.7

### शकुन विचार

शकुन विचार 262.4 ⇨

### शकुन विचारक

शकुनज्ञ 262.17

### शकुन विश्वासी

भ्रम विश्वासी 340.15

### शकुनि

गिद्ध 126.26

चील 126.41

दानव सूची 783.13

पक्षी 126.1

शकुनि 771.88 ⇨

### शकुनिका

मादा पक्षी 126.2

### शकुनी

गौरिया 126.30

### शकुत

गोबर 110.12

विष्ठा 216.2

### शक्कर

ईख शर्करा 260.22

शर्करा 260.21

### शक्करी

मीठा [मीठी] 280.30

### शक्की

संदेहशील 341.10

### शक्त

शक्तिशाली 487.20

सक्षम 487.25

### शक्ति

अधिकार 897.1

ऊर्जा 101.1

कालिका 776.2

क्षमता 487.7

गतिक बल 1050.1

छोटा भाला 925.5

जादू 474.2

तलवार 924.7

दुर्गा 776.7

प्रणोदन शक्ति 1051.2

प्रवीणता 303.8

प्रहार सहन शक्ति 920.2

बलिष्ठता 160.1

भाला 925.4

माया 762.9

वीरता 396.1

वीर स्त्री: उपमान 396.4

शक्ति 776.17 ⇨

शक्ति 487.1 ⇨

शक्ति देवी 774.6

शारीरिक बल 160.2

शुलास्त्र 925.1

सत्ता 899.1

### शक्ति अस्त्र

शुलास्त्र 925.1

### शक्ति क्षय

शक्ति नारा 488.2

### शक्तिक्षीण

शक्तिनष्ट 488.12

शक्तिबाता [शक्तिघात्री]

शक्ति वर्धक 487.23

### शक्ति बायक

पौष्टिक 179.22

शक्ति वर्धक 487.23

### शक्ति बायकता

पोषकता 179.2

### शक्ति बेबी

गायत्री 774.34

योग माया 771.82

शक्ति देवी 774.6 ⇨

### शक्तिधर

भालाधारी 930.16

### शक्तिध्वज

स्कंद 773.50

### शक्तिनष्ट

शक्तिनष्ट 488.12 ⇨

### शक्ति नारा

शक्ति नारा 488.2 ⇨

### शक्ति नाराक

शक्ति नाराक 488.13 ⇨

### शक्ति नारा झोना

शक्ति नारा होगा 488.6 ⇨

### शक्ति: नी विग्रह

नवशक्ति 776.18

### शक्ति परीक्षा

शक्ति परीक्षा 487.4 ⇨

### शक्तिपाणि

भालाधारी 930.16

### शक्ति पूजक

तंत्र सायक 758.4

### शक्ति पूजक संभव

शाक्त संप्रदाय 737.52

### शक्ति पूजा

दुर्गा पूजा 57.14

### शक्तिपूर्ण

शक्तिशाली 487.20

### शक्तिप्रद

पौष्टिक 179.22

### शक्ति प्रवर्धन

प्रलेग मार्च 1083.15

### शक्ति प्रधान कुशली

मीमसेनी कुशली 486.10

### शक्ति प्रयोग

बल प्रयोग 487.5

### शक्ति धर

यथाक्षमता 487.32

शक्तिमंता [शक्तिमती]

शक्तिशाली 487.20

### शक्तिमत्ता

अयोध्यता 519.14

शक्तिमान  
शक्तिशाली 487.20  
शक्ति कर्मक  
टोपिक 176.18  
शक्ति वर्धक 487.23 ⇨  
शक्ति कर्मन  
शक्ति वर्धन 487.3 ⇨  
सैन्यीकरण 907.6  
शक्तिवान [शक्तिवली]  
शक्तिशाली 487.20  
शक्ति विभाजन  
धुवीकरण 885.12  
शक्ति विभाजन होना  
धुवीकरण होना 885.25  
शक्ति विषयक  
शक्ति विषयक 774.105 ⇨  
शक्तिवीर  
वानमार्गी 737.47  
शक्तिशालिता  
शक्तिशालिता 487.2 ⇨  
शक्तिशाली  
बलिष्ठ 160.10  
शक्तिशाली 487.20 ⇨  
शक्तिशाली मंत्र  
महामंत्र 741.2  
शक्ति संपन्न  
शक्तिशाली 487.20  
शक्तिहीन  
अधिकारहीन 898.3  
अबलिष्ठ 159.12  
क्षमताहीन 488.15  
शक्तिहीन 488.10 ⇨  
शक्तिहीनता  
अधिकारहीनता 898.1  
अबलिष्ठता 159.3  
शक्तिहीनता 488.1 ⇨  
शक्ति ह्रास  
शक्ति नाश 488.2  
शक्तीय  
शक्तीय 487.19 ⇨  
शक्य  
व्यावहारिक 828.9  
सम्भन 487.25  
साध्य 518.16  
शक्यता  
क्षमता 487.7  
व्यावहारिकता 828.2  
संभावना 68.1  
साध्यता 518.4  
शक्र  
इंद्र 773.5  
उल्खु 126.14  
शक्रज  
कीजा 126.22  
शक्रपाल  
तिलिस्म 474.13  
शक्रजित  
मेघनाद 784.10

शक्र विरा  
पूर्व 29.11  
शक्र हुन  
देवदारु 13.10  
शक्रधनुष  
इंद्रधनुष 55.8  
शक्र नंबन  
अर्जुन 771.36  
शक्रपुरी  
इंद्र: नगर अमरावती 773.7  
शक्रशाला  
यज्ञ शाला 753.18  
शक्रशुत  
जयंत 773.29  
शक्राणी  
शची 774.89  
शक्रारि  
मेघनाद 784.10  
शक्री  
पर्वत 16.3  
मेघ 55.1  
हाथी 127.38  
शक्रीय  
इंद्र 773.53  
शकल  
आकार रूप 967.5  
रचना विन्यास 527.8  
शकवरी  
उँगली 150.13  
करघनी 228.7  
शकृत  
व्यक्ति 689.1  
शकृतियत  
व्यक्तित्व 836.1  
शकृती  
वैयक्तिक 689.3  
शकृती द्रुकुमत  
एकतंत्र 881.21  
शाल  
मनोरंजन 489.1  
शाल  
गीदक 127.75  
शगुनिया,  
शकुनज्ञ 262.17  
शगुपतगी  
प्रस्फुटन 119.1  
प्रस्फुटितता 119.2  
शगुप्रता  
प्रस्फुटित 119.10  
शगुक्रा  
घुटकुला 450.26  
शधि  
ऊर्जा 101.1  
शक्ति 487.1  
शची 774.89  
शचींद्र  
इंद्र 773.5

शची  
इंद्र: पत्नी 773.6  
ऊर्जा 101.1  
प्रज्ञा 774.53  
बाधा 299.1  
शक्ति 487.1  
शची 774.89 ⇨  
सत्कारन 814.2  
शची (अवतार)  
द्रौपदी 771.64  
शचीनाथ  
इंद्र 773.5  
शचीपति  
इंद्र 773.5  
शची: पिता  
पुलोमा 783.14  
शचीसुत  
जयंत 773.29  
शजर  
वंशावली 727.13  
शटर  
शटर 405.20 ⇨  
शटर (अँ)  
शटर 405.20  
शटर कपाट 609.8  
शटर कपाट  
शटर कपाट 609.8 ⇨  
शटल क्रीक (अँ)  
बैडमिंटन गेंद 479.12  
शठ  
कुटिल 818.7  
छली 827.24  
दुर्जन 818.5  
शठता  
कुटिलता 818.3  
दुर्जनता 818.1  
शठधी  
अकल्याण कानी 711.11  
शण  
सन 588.2  
शण  
सी 948.70  
शतक  
विष्णु 768.1  
शतक 446.27 ⇨  
शताब्दी 42.25  
सी 948.70  
सी: समुदाय 687.16  
शत कोटि  
अरब 948.79  
शतगुण  
सौगुणा 949.49  
शतज्जी  
तोप 927.2  
शतजंबू यज्ञ  
यज्ञ सूची 753.2  
शतजित  
विष्णु 768.1

शतबल  
कमल 14.4  
शतदु  
सतलज 20.20  
शतधा  
शत प्रति शत 947.32  
शतधामा  
विष्णु 768.1  
शतधार  
इंद्र वज्र 928.8  
शतपत्र  
गौर 126.68  
शतपत्र  
कनकपूरा 122.13  
शतपत्र  
ताक 13.8  
शतपुष्पा  
सौक 281.36  
शत प्रति शत  
पूर्णाशत: 940.15  
शत प्रति शत 947.32 ⇨  
सर्व 940.8  
शतबाहु  
शतस सूची 784.4  
शतबिबा  
नक्षत्र सूची 4.8  
शतमख  
इंद्र 773.5  
शतमन्वु  
इंद्र 773.5  
क्रोधी 373.29  
शतम लव प्रणाली  
शतम लव प्रणाली 850.10 ⇨  
शतमूला  
दूब घास 11.10  
शत यष्टिक  
100 लकी: माला 228.45  
शतरंज  
शतरंज 478.9 ⇨  
शतरंज बिसात 479.35  
शतरंज बिसात  
शतरंज बिसात 479.35 ⇨  
शतरंजित  
बहुरंगा [बहुरंगी] 289.70  
शतरंजी  
चारखानेदार घादर 593.20  
दरी 593.51  
रंगबिरंगी दरी 593.53  
शतरंज बिसात 479.35  
शतकपा  
ब्रह्मा: पत्नी सूची 766.8  
शतविध  
शत प्रति शत 947.32  
शतविधत:  
विधितत: 310.11  
शतविधता  
विधितता 310.3

## शतशः

### शतशः

अनेकदा 73.8  
विधिगतः 310.11  
शत प्रति शत 947.32  
शतांश  
शतांश 949.23 ⇌  
शतांशः उपमान सूची  
शतांशः उपमान सूची 949.24 ⇌  
शताधिक  
शताधिक 948.104 ⇌  
शतानंद  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
कृष्ण 771.1  
जनकः पुरोहित 770.32  
ब्रह्मा 766.1  
शतानन  
विष्णु 768.1  
शतानीक  
राक्षस सूची 784.4  
ससुर 724.8  
शताब्द  
शताब्दी 42.25  
शताब्दी  
शताब्दी 42.25 ⇌  
शताब्दी जयंती 58.8  
सीः समुदाय 687.18  
शताब्दी जयंती  
शताब्दी जयंती 58.8 ⇌  
शतापु  
दीर्घायु 229.19  
शतार  
कृष्णः चक्र 771.16  
शतावधानी  
शम 770.1  
शतावरी  
शची 774.89  
शतिक  
सौवीं [सौवीं] 948.103  
शती  
दीर्घ काल 37.5  
शताब्दी 42.25  
शताब्दी जयंती 58.8  
सीः समुदाय 687.18  
शतीय  
सौवीं [सौवीं] 948.103  
शतोत्तर  
शिव 767.1  
शत्य  
सौवीं [सौवीं] 948.103  
शत्रुजय  
शत्रु विजेता 912.19  
शत्रु  
शत्रु 708.2 ⇌  
शत्रुघाती  
शत्रु नासक 708.20  
शत्रुघ्न  
दशरथः पुत्र सूची 770.35  
रामः भाई सूची 770.5

शत्रुघ्न 770.58 ⇌  
शत्रु नासक 708.20  
शत्रु विजेता 912.19  
शत्रुघ्नः पत्नी  
शत्रुघ्नः पत्नी 770.59 ⇌  
भुतकीर्ति 770.65  
शत्रुघ्नः पुत्र सूची  
शत्रुघ्नः पुत्र सूची 770.60 ⇌  
शत्रुघ्नः माता  
सुमित्रा 770.71  
शत्रुघ्नः राजधानी  
शत्रुघ्नः राजधानी 770.62 ⇌  
शत्रुघ्नः राज्य  
शत्रुघ्नः राज्य 770.81 ⇌  
शत्रुजय  
शत्रुजय 912.5 ⇌  
शत्रुजित  
शत्रुघ्न 770.68  
शत्रु नासक 708.20  
शिव 767.1  
शत्रु जेता  
शत्रु विजेता 912.19  
शत्रुता  
कलह 708.1  
शत्रुता 708.1 ⇌  
शत्रुताः उपमान सूची  
शत्रुताः उपमान सूची 708.22 ⇌  
शत्रुता करना  
शत्रुता करना 708.12 ⇌  
शत्रुताकारक  
शत्रुताकारक 708.18 ⇌  
शत्रुता बुर करना  
शत्रुता निवारण करना 708.13  
शत्रुता नारा  
शत्रुता निवारण 708.8  
शत्रुता नासक  
शत्रुता निवारक 708.19  
शत्रुता निवारक  
शत्रुता निवारक 708.19 ⇌  
शत्रुता निवारण  
शत्रुता निवारण 708.8 ⇌  
शत्रुता निवारण करना  
शत्रुता निवारण करना 708.13 ⇌  
शत्रुतापूर्ण  
शत्रुतापूर्ण 708.21  
शत्रुतापूर्ण  
शत्रुतापूर्णता 708.15 ⇌  
शत्रुतापूर्वता  
शत्रुतापूर्वता 708.10  
शत्रुता भिदाना  
शत्रुता निवारण करना 708.13  
शत्रुता होना  
शत्रुता होना 708.11 ⇌  
शत्रु दमन  
शत्रुजय 912.5  
शत्रुदमन  
शत्रु नासक 708.20  
शत्रु विजेता 912.19

शत्रु नास  
शत्रु नास 708.9 ⇌  
शत्रु नासक  
शत्रु नासक 708.20 ⇌  
शत्रु नासन  
उच्चाटन 758.15  
शत्रुनाशन यंत्र  
उच्चाटन यंत्र 758.14  
शत्रुपक्ष  
विरोध पक्ष 886.3  
शत्रुपूर्ण  
शत्रुपूर्ण 708.16 ⇌  
शत्रु बनाना  
शत्रुता करना 708.12  
शत्रु भाव  
शत्रुभाव 708.10  
शत्रु भाव भिदाना  
शत्रुता निवारण करना 708.13  
शत्रुसर्जन  
शत्रु विजेता 912.19  
शत्रु विजयः चार उपाय  
नीति चतुष्टय 819.2  
शत्रु विजेता  
शत्रु विजेता 912.19 ⇌  
शत्रुसहित  
शत्रुपूर्ण 708.16  
शत्रुहर्ता  
शत्रु नासक 708.20  
शत्रुह्रा  
शत्रुघ्न 770.58  
शत्रु नासक 708.20  
शत्रुहीन  
शत्रुहीन 708.17 ⇌  
शत्रुहीनता  
शत्रुहीनता 708.3 ⇌  
शत्रुचरी  
रात 48.1  
शनाज्ञा  
अभिज्ञान 356.11  
तथ्यान्वेषण 336.1  
परिचय 315.1  
शनावर  
तैराक 483.2  
शनावरी  
तैराकी 483.1  
शनास  
परिचय 315.1  
शनि  
नवग्रह सूची 281.14  
शनि 773.45 ⇌  
शनि ग्रह 7.8  
शनिवार 46.9  
शिव् 767.1  
सौर मंडलः ग्रह सूची 7.4  
शनि (दे.)  
शनि 773.45  
शनि एक तिहाई दशा  
शनि एक तिहाई दशा 281.23 ⇌

शनिकाल  
दुर्भाग्य 280.18  
शनि ग्रह  
शनि ग्रह 7.8 ⇌  
शनि दशा  
शनि दशा 281.22 ⇌  
शनि भासा  
छाया 774.38  
शनिवार  
शनिवार 46.9 ⇌  
शनिचक्र  
शनि ग्रह 7.8  
शनी  
शनिवार 46.9  
शनीचर  
शनिवार 46.9  
शने  
मंदतः 1045.15  
सविमानता 1048.8  
शने शने  
शिथिल गति से 1045.17  
शनिचक्र  
मंदगामी [मंदगामिनी] 1045.11  
शनि ग्रह 7.8  
शनिवार 46.9  
शप  
शपथ 339.20  
शपथ  
आन 349.3  
प्रतिज्ञा 339.17  
शपथ 339.20 ⇌  
शपथ कर्ता  
शपथ कर्ता 339.49 ⇌  
शपथ प्रहीता  
शपथ कर्ता 339.49  
शपथ पत्र  
शपथ पत्र 339.21 ⇌  
शपथपूर्ण  
शपथपूर्ण 339.48 ⇌  
शपथपूर्वक  
शपथपूर्वक 339.53 ⇌  
शपथ लेना  
शपथ लेना 339.31 ⇌  
शपथहीन घोषणा  
अशपथ घोषणा 339.22  
शपथी  
शपथ कर्ता 339.49  
शपथप  
सटसटाहट 297.38  
शपथपाहट  
सटसटाहट 297.38  
शपथ  
शापित 713.8  
शपथि  
शाप 713.1  
शक  
खुर 150.11  
मूल 112.10

शाकम्ब  
 शक्तिज 2.4  
 शाकम्बायु  
 आङ्क 190.7  
 शाकर  
 मछली 125.1  
 शाकरी 125.12  
 शाकराधिप  
 हिलसा 125.16  
 शाकरी  
 शाकरी 125.12 ⇨  
 शाक्री  
 आरोप्य लाम 171.11  
 शाक्रीमाना  
 अस्पताल 175.5  
 चिकित्सालय 175.1  
 शाक्री  
 क्षमा दाता 872.15  
 शाक  
 रात 48.1  
 शाकका  
 पक्षी पारा 1013.11  
 शाकगह्वर  
 रात्रि: पहरेदार 908.10  
 शाकनम  
 ओस 90.11  
 शाकनमी  
 मसहरी 593.62  
 शाक बट्टीर  
 गुड नाइट 1060.17  
 शाक बरात  
 शाके बरात 57.52  
 शाकर  
 शाकर जाति 732.12  
 शिव 767.1  
 हस्त 149.2  
 शाकर जाति  
 शाकर जाति 732.12 ⇨  
 शाकर जातीय  
 शाकर जातीय 732.22 ⇨  
 शाकर: पत्नी  
 शाबरी 770.63  
 शाबरी  
 खंती 559.12  
 शाबर जातीय 732.22  
 शाबरी 770.63 ⇨  
 शाबरीय  
 शाबर जातीय 732.22  
 शाबरी  
 रात्रि: पहरेदार 908.10  
 शाबल  
 बहुरंगी [बहुरंगी] 289.70  
 शाबल [शाबला]  
 चितकबरा [चितकबरी] 289.75  
 शाबलता  
 बहुरंगीयता 289.22  
 विविधता 310.3

शाबाना  
 रात विषयक 48.13  
 शाबाब  
 यौवन 231.6  
 वसंत काल 57.1  
 शाबाहत  
 सममिति 1026.2  
 शाबिस्तान  
 पलंग 594.10  
 शयन कक्ष 614.21  
 शाबीना  
 रात विषयक 48.13  
 शाबीह  
 चित्र 404.1  
 शाबीहकार  
 पोर्ट्रेट कर्मी 404.30  
 शाबे अब्दल  
 मयु यामिनी 800.33  
 शाबे बरात  
 शाबे बरात 57.52 ⇨  
 शाबे मालवा  
 मालवा: रात 48.8  
 शाबे माहताब  
 उजली रात 48.4  
 शाबे वसाल  
 मयु यामिनी 800.33  
 शाबे शाहादत  
 शाबे शाहादत 57.53 ⇨  
 शाबो रोज़  
 अविराम 1049.10  
 शाब  
 उपदेश 430.9  
 ओम् 741.19  
 गीत 451.19  
 गीत. बोल 451.20  
 धर्म उपदेश 742.5  
 ध्वनि 294.1  
 बाइबिल 739.8  
 वाचा 299.1  
 शाब्द 423.1 ⇨  
 सूक्ति 434.2  
 शाब्द (कान)  
 इन्द्रियार्थ सूची 268.10  
 शाब्द: अंतिम अक्षर  
 शाब्द: अंतिम अक्षर 410.4 ⇨  
 शाब्द अर्थ विस्तारण  
 अर्थ विस्तार 426.16  
 शाब्द अर्थ संकुचन  
 अर्थ संकुचन 426.17  
 शाब्द उच्चारण  
 उच्चारण 411.1  
 शाब्द उद्गम  
 शाब्दोद्गम 423.3  
 शाब्द और संगीत  
 संगीत 457.1  
 शाब्दकार  
 साहित्य लेखक 448.2

शाब्दकोश  
 शाब्दकोश 446.12 ⇨  
 शाब्द चमत्कार  
 शाब्दालंकार 454.8  
 शाब्द चातुर्य  
 चाण्डालास 421.20  
 शाब्द चित्र  
 वर्णन साहित्य 449.3  
 व्यक्ति वर्णन 449.6  
 शाब्द जाल  
 शाब्दाडंबर 421.28  
 शाब्द दोष  
 शाब्द दोष 453.9 ⇨  
 शाब्द धातु  
 शाब्द धातु 423.9 ⇨  
 शाब्दन  
 कथन 430.1  
 ध्वनन 294.2  
 शाब्दपाती  
 ध्वनिवेधी 931.25  
 शाब्द प्रभाकर  
 ईसा संदेश वाहक 79:12  
 शाब्द: प्रथम अक्षर  
 शाब्द: प्रथम अक्षर 410.3 ⇨  
 शाब्द प्रमाण  
 प्रमाण सूची 327.2  
 शाब्द प्रसंस्करण  
 वर्द्ध प्रीसिंसिग 413.4  
 शाब्द ब्रह्म  
 ओम् 741.19  
 योग ध्वनि 756.16  
 वेद 740.22  
 शाब्द ब्रह्म 764.30 ⇨  
 शाब्द ब्रह्म: व्याख्याता  
 वैयस्वत मनु 188.5  
 शाब्द भंडार  
 शाब्दावली 421.19  
 शाब्दभेद  
 ध्वनि वेधन 931.14  
 शाब्दभेदी  
 ध्वनिवेधी 931.25  
 शाब्दमाला  
 धिसारस 446.14  
 शाब्दकोश 446.12  
 शाब्दयोनि  
 शाब्द धातु 423.9  
 शाब्द लिंग  
 शाब्द लिंग 425.46 ⇨  
 शाब्द: वचन  
 शाब्द: वचन 425.44 ⇨  
 शाब्द: वचन सूची  
 शाब्द: वचन सूची 425.45 ⇨  
 शाब्दवाही आकाश  
 वायु मंडल 2.6  
 शाब्द विश्लेषण  
 पद अन्वय 427.5  
 शाब्द वृत्ति  
 शाब्द शक्ति 426.2

शाब्दवेध  
 ध्वनि वेधन 931.14  
 शाब्दवेधी  
 अर्जुन 771.36  
 दशरथ 770.33  
 ध्वनिवेधी 931.25  
 शाब्द व्युत्पत्ति  
 शाब्द व्युत्पत्ति 423.2 ⇨  
 शाब्दशा:  
 प्रतिरूपता: 967.23  
 शाब्द शक्ति  
 शाब्द शक्ति 426.2 ⇨  
 शाब्द शक्ति सूची  
 शाब्द शक्ति सूची 426.3 ⇨  
 शाब्द संधि  
 शाब्द संधि 425.52 ⇨  
 शाब्द संपदा  
 शाब्दावली 421.19  
 शाब्द सौंदर्य  
 शाब्दालंकार 454.8  
 शाब्द सौष्ठव  
 चाण्डालास 421.20  
 शाब्दालंकार 454.8  
 शाब्दहीन  
 ध्वनिहीन 295.4  
 शाब्दहीनता  
 ध्वनिहीनता 295.1  
 शाब्दाक्षर  
 ओम् 741.19  
 शाब्दाडंबर  
 शाब्दाडंबर 421.28 ⇨  
 शाब्दाडंबरपूर्ण  
 शाब्दाडंबरपूर्ण 421.35 ⇨  
 शाब्दाडंबरपूर्ण तर्क  
 शाब्दाडंबरपूर्ण तर्क 325.6 ⇨  
 शाब्दाडंबरहीन  
 सहज (भाषा) 421.33  
 शाब्दाडंबरहीन भाषा  
 सहज भाषा 421.23  
 शाब्दातीत  
 अपरिभाष्य 317.20  
 अवर्णनीय 449.28  
 ईश्वर 764.1  
 शाब्दातीतता  
 अपरिभाष्यता 317.4  
 अवर्णनीयता 449.2  
 शाब्दानुशासन  
 व्याकरण 425.1  
 शाब्दायमान  
 ध्वनित 294.21  
 ध्वनिपूर्ण 294.20  
 शाब्दार्थ अभिनय  
 नृत्य नाट्य 462.2  
 शाब्दार्थ कोश  
 शाब्दकोश 446.12  
 शाब्दार्थ ग्रहण  
 अभिधा क्रिया 399.13

## शब्दार्थ बोध

### शब्दार्थ बोध

अर्थ ग्रहण 427.2  
 शब्दालंकार  
 शब्दालंकार 454.8 ⇨  
 शब्दालोचन  
 वर्ड प्रीसेसिंग 413.4  
 शब्दावली  
 शब्दावली 421.19 ⇨  
 शब्दित  
 अभिव्यक्त 428.17  
 कथित 430.16  
 ध्वनित 294.21  
 वर्णित 449.24  
 वादित 461.105  
 संज्ञापित 441.19  
 शब्दीय  
 शब्दीय 423.12 ⇨  
 शब्दत्रिय  
 कान 142.1  
 शब्दोद्गम  
 शब्दोद्गम 423.3 ⇨  
 शब्दोद्गम  
 शब्दोद्गम 423.3  
 शब्दो  
 रात की रानी 14.23  
 शम  
 अनासक्ति 366.1  
 निवृत्ति 503.1  
 मोक्ष साधन सूची 257.4  
 राहत 171.12  
 शांति 372.1  
 संयम 808.8  
 सात्वना 393.4  
 शमक  
 शांति स्थापक 906.14  
 शमता  
 प्रशमता 372.2  
 शमथ  
 धर्म दीक्षक 742.26  
 शमन  
 अग्नि शमन 108.6  
 दमन 911.4  
 प्रशामक 372.11  
 बौद्ध भिक्षु 790.27  
 मनुहार 374.6  
 सात्वना प्रदान 393.5  
 शमन करना  
 आग बुझाना 108.12  
 शमनी  
 रात 48.1  
 शमनीसद  
 भूत 786.1  
 शमला  
 टोप टोपी तुरा 584.21  
 शाल 585.17  
 शमशाद  
 लंबे क्रद वाला 154.13

शमशीर  
 तलवार 924.7  
 शमरीर  
 तलवार 924.7  
 शमरीर जंग  
 रणवीर 396.9  
 शमरीर बहादुर  
 रणवीर 396.9  
 शमरीर वक्रक  
 तलवारधारी 930.11  
 शमा  
 प्रेमपात्रा 369.5  
 मोमबत्ती 285.10  
 शमादान  
 फ़ानूस 285.21  
 शमित  
 प्रशमित 372.10  
 बुझा [बुझी] 108.18  
 शांतिपूर्ण 372.8  
 शमीज़  
 शमीज़ 587.7 ⇨  
 शमीज़ (क़ा)  
 शमीज़ 587.7  
 शमीज़ (अँ)  
 साबर 582.20  
 शमोय  
 साबर 582.20  
 शम्भ  
 जपमाला: फ़ुदना 749.9  
 शम्सी साल  
 सौर वर्ष 42.13  
 शयंढ  
 निद्रित 266.13  
 शयंढक  
 गिरगिट 123.3  
 शय  
 शयन 1027.1  
 हस्त 149.2  
 शयन  
 निद्रा 266.1  
 निद्रागम 266.2  
 शयन 1027.1 ⇨  
 शयन कक्ष  
 मधुकक्ष 802.31  
 शयन कक्ष 614.21 ⇨  
 शयन गीत  
 तोरी 457.42  
 शयन यान  
 स्लीपर कोच 1076.6  
 शयन रचना  
 चाँसठ कला सूची 397.4  
 शयन वास  
 स्लीपिंग सूट 583.21  
 शयनागार  
 शयन कक्ष 614.21  
 शयनालय  
 रैन बसेरा 618.16

शय्यालु  
 अजगर 123.17  
 शयित  
 निद्रित 266.13  
 शयित 1027.15 ⇨  
 शय्या  
 खाट 594.6  
 बिछीना 593.47  
 बिस्तर 593.58  
 शय्या 594.1 ⇨  
 शय्या गमन  
 निद्रागम 266.2  
 शय्या शायी  
 शय्या शायी 1027.20 ⇨  
 शयंढ  
 गिरगिट 123.3  
 शर  
 गौंडर घास मूल 112.15  
 छेकछाक 365.7  
 बाण 926.16  
 सरकंडा 597.11  
 शरअ  
 सुधर्म 735.4  
 शर धात  
 धनुर्विद्या 907.29  
 शरच्छंद्रिका  
 शरद चौदनी 287.7  
 शरजन्ना  
 स्कंद 773.50  
 शरज्ज्योत्स्ना  
 शरद चौदनी 287.7  
 शरण  
 आक 805.1  
 विष्णु 768.1  
 शरण 910.4 ⇨  
 शरण दाता  
 शरण दाता 910.13 ⇨  
 शरण देना  
 शरण देना 910.8 ⇨  
 शरण में आना  
 शरण लेना 910.7  
 शरण में जाना  
 शरण लेना 910.7  
 शरण में लेना  
 शरण देना 910.8  
 शरण लेना  
 शरण लेना 910.7 ⇨  
 शरण स्थल  
 शरण स्थल 910.5 ⇨  
 शरणागत  
 शरणागत 910.12 ⇨  
 शरणागत बत्सल  
 कृष्ण 771.1  
 शरण दाता 910.13  
 शरणार्थी  
 विस्थापित जन 1036.5  
 शरणार्थी 910.12

शरणी  
 जयीती 774.37  
 सरक 1063.33  
 शरण्य  
 रक्षा 908.1  
 शरण 910.4  
 शरण स्थल 910.5  
 शिव 767.1  
 शरण्यु  
 मेघ 55.1  
 शरण दाता 910.13  
 शरत  
 शरद काल 53.4  
 शरत काल  
 शरद काल 53.4  
 शरत कालीन  
 शरद कालीन 53.15  
 शरद  
 शरद कालीन 53.15  
 शरद  
 शरद कालीन 53.15  
 शरत्काल  
 शरद काल 53.4  
 शरत्कालीन  
 शरद कालीन 53.15  
 शरत्पद्म  
 श्वेत कमल 14.7  
 शर दंड  
 सरकंडा 597.11  
 शरदंत  
 हेमंत काल 53.5  
 शरद  
 शरद काल 53.4  
 शरद (आश्विन कार्तिक)  
 छः ऋतु सूची 51.15  
 शरद ऋतु: रात  
 शरद ऋतु: रात 48.7 ⇨  
 शरद काल  
 शरद काल 53.4 ⇨  
 शरद कालीन  
 ऊनी 568.16  
 शरद कालीन 53.15 ⇨  
 शरद चौदनी  
 शरद चौदनी 287.7 ⇨  
 शरद धूप  
 शरद धूप 287.9 ⇨  
 शरद पूर्णिमा  
 शरद पूर्णिमा 57.28 ⇨  
 शरदवान  
 ऋषि मुनि सूची 789.17  
 शरद विषुव  
 शरद विषुव 5.23 ⇨  
 शरपुंज  
 बाण: पंख 926.20  
 शरक  
 प्रतिष्ठा 849.2  
 शरवत  
 शरवत 208.6 ⇨  
 शरवती  
 माधुर्यपूर्ण 157.9

नीटा [नीटी] 280.30  
 रसपूर्ण 84.17  
 शरकली नीबू  
 चकोतरा 190.18  
 संतरा 190.34  
 शरभंग  
 श्रवि मुनि सूची 789 17  
 शरभ  
 टिड्डा 122.25  
 दानव सूची 783.13  
 विष्णु 768.1  
 शरभाक  
 लज्जारील 845.11  
 शरमाना  
 मुकुलित होना 120.5  
 लज्जित होना 845.6  
 शरमिवा  
 लज्जित 845.10  
 शरमीला [शरमीली]  
 लज्जारील 845.11  
 शरमीलापन  
 लज्जारीलता 845 2  
 शरयु  
 सरयू 20.21  
 शरबनीवृषभ  
 स्कंद 773.50  
 शरवाणि  
 धनुषधारी 930.13  
 शरव्य  
 लक्ष्य 931 1  
 लक्ष्य केंद्र 931.7  
 शर शय्या  
 बाण शय्या 594.4  
 शरह  
 दर 947.10  
 मूल्य 664.1  
 शरह बंदी  
 मूल्य सूची 993.7  
 शराकत  
 सहकर्म 700.3  
 शराग्र  
 बाणः अग्रभाग 926.18  
 शराटिका  
 कुररी 126.20  
 टिटिहरी 126.42  
 शरापना  
 शाप देना 713.6  
 शराकृत  
 उच्च कुलीनता 728 3  
 हलीलता 733.6  
 सज्जनता 817 1  
 सन्धीकरण 733.1  
 शराफा  
 पेड़ी 662.5  
 शराव  
 मद्य 209.1  
 शराव शिवाई  
 मद्य आसवन 82.2

शरावधोर  
 मद्यासक्त 209.44  
 शराव धर  
 मद्यशाला 209.36  
 शरावः दुकान  
 मद्य विक्रय स्थल 209.34  
 शरावनोरी  
 मद्यपान 209.21  
 शरावबंदी  
 मद्य निषेध 209.28  
 शरावी  
 मदीमत्त 211.15  
 मद्यपायी 209.42  
 मद्यासक्त 209.44  
 शरावी कबाडी  
 मद्यमांस सेवी 205.12  
 शरावीपन  
 मद्यपता 209.26  
 शरावोरियत  
 तल्लीनता 331.6  
 शरावुध  
 धनुष 926.8  
 शरावत  
 संघलता 860.8  
 छेड़छाड़ 385.7  
 दुर्जनता 818 1  
 नटखट कृत्य 860 11  
 नटखटपन 860.10  
 विनोद 385.1  
 शरावत (दे. नटखटपन)  
 ऊयन 294.9  
 शरावत करना  
 नटखट कृत्य करना 860 17  
 शरावती  
 चुहलबाज़ 385 14  
 दुर्जन 818.5  
 नटखट 860.27  
 विनोदी 385.13  
 शरावा  
 धिगारी 106.11  
 शरावलि  
 टिटिहरी 126.42  
 शराविका.  
 कुररी 126.20  
 शराव  
 थाल 885.1  
 शरावक  
 सरइया 683.11  
 शरावर  
 तरकस 926.22  
 शराव्रय  
 तरकस 926.22  
 शरासन  
 धनुष 926.8  
 शरी  
 धनुषधारी 930.13  
 शरीकत  
 इसलामी धर्मग्रंथ 739.1

इसलामी विधि 878.7  
 धर्म ग्रंथ 738.1  
 शरीकत मुहम्मदी  
 इसलामी विधि 878.7  
 शरीक  
 सनाविट 1002.21  
 सहकर्मी 700.22  
 शरीके जुर्म  
 सह अपराधी 861.5  
 शरीके हयात  
 पत्नी 803.6  
 शरीक  
 उच्च कुलीन 728 15  
 कुलीन पुरुष 728.6  
 पापहीन 813.9  
 प्रतिष्ठित 849.15  
 शिट 733.18  
 सच्चरित्र 810.5  
 सज्जन 817 7  
 सभ्य 733.13  
 शरीक खानदान  
 उच्च कुल 728 2  
 शरीकजावा  
 कुलीन पुरुष 728 6  
 शरीकजावादी  
 कुलीन स्त्री 728.7  
 शरीका  
 खाद्य फल सूची 190 2  
 शरीफा 190.32 ⇨  
 शरीर  
 आकार रूप 987.5  
 क्रम क्रामत 154.1  
 र्जन 818.5  
 नटखट 860.27  
 विनोदी 385.13  
 शरीर 139.1 ⇨  
 शव 254.1  
 शरीर (सप्तधातु)  
 सात उपमान सूची 948 30  
 शरीर अग्नि  
 पेंडक अग्नि 106.6  
 शरीरः ऊर्ध्व भाग  
 शरीरः ऊर्ध्व भाग 139.4 ⇨  
 शरीर काठी  
 क्रम क्रामत 154.1  
 शरीरः कोई भाग  
 शरीर भाग 139.3  
 शरीर ग्रंथि  
 शरीर ग्रंथि 132.8 ⇨  
 शरीर चर्मा  
 शरीर चर्मा 225.1 ⇨  
 शरीर चिकित्सा  
 काय चिकित्सा 173.3  
 शरीर चिह्न  
 अंग चिह्न 261.35  
 शरीरज  
 कामदेव 773.12

शरीरता  
 शरीरताः 139.16 ⇨  
 शरीर त्यागना  
 मरना 249.18  
 शरीर देवा  
 शरीर भाग 139.3  
 शरीर द्वार  
 शरीर रंज 138  
 शरीर द्वार अंगीकरण  
 स्वांगीकरण 1002.4  
 शरीर धारण  
 जन्म 248.1  
 शरीरः निम्न भाग  
 शरीरः निम्न भाग 139.6 ⇨  
 शरीर निर्माण  
 व्यायाम 485.1  
 शरीरः नी द्वार  
 शरीरः नी रंज 138.2  
 शरीरः नी रंज  
 शरीरः नी रंज 138.2 ⇨  
 शरीरः नी रंज सूची  
 शरीरः नी रंज सूची 138.3 ⇨  
 शरीर प्रशिक्षक  
 व्यायाम प्रशिक्षक 485.3  
 शरीर प्रशिक्षण  
 व्यायाम प्रशिक्षण 485.2  
 शरीर भंगिना  
 स्थानक 464.26  
 शरीर भाग  
 शरीर भाग 139.3 ⇨  
 शरीरः मध्य भाग  
 धड़ 147 1  
 शरीरः मध्य भाग 139.5 ⇨  
 शरीर मुद्रा  
 मंडल 464 24  
 शरीर यात्रा  
 जीवन 246.6  
 जीवन यात्रा 229.10  
 शरीरयुक्तता  
 साकारता 967 1  
 शरीर रंज  
 शरीर रंज 138.1 ⇨  
 शरीर रक्षक  
 अंगरक्षक 908.21  
 शरीर रक्त  
 शरीरव्य 129.6  
 शरीर रोम  
 शरीर रोम 135.1 ⇨  
 शरीर बुद्धि  
 आजीविका 650.1  
 शरीरव्य  
 जीव द्रव्य 129.1  
 शरीरव्य 129.6 ⇨  
 शरीर शक्ति  
 शारीरिक बल 160.2  
 शरीर शुद्धि  
 शोध निवृत्ति 216.7

## शरीर षड्यक्र

शरीर षड्यक्र  
 षट्चक्र 757.7  
 शरीर संज्ञा  
 चेतना 263.4  
 शरीर संधि  
 अवयव संधि 139.10  
 शरीर संस्कार  
 शरीर धर्या 225.1  
 शरीर लीचय  
 सुखीलता 155.2  
 शरीरहीन  
 अशरीरी 139.14  
 निराकार 967.13  
 शरीरहीनता  
 निराकारता 967.2  
 भारहीनता 963.3  
 शरीरांत  
 मृत्यु 249.1  
 शरीरांतर  
 अन्य जन्म 248.4  
 शरीरार्पण  
 आत्मबलि 754.3  
 परिभ्रम 493.1  
 शरीरावरण  
 त्वचा 134.1  
 शरीरिन  
 शरीरव्य 129.6  
 शरीरी  
 जीव 121.4  
 जीवित 246.13  
 शरीरी 139.13 ⇌  
 शारीरिक 139.11  
 साकार 967.12  
 शरीरीय  
 आकृतीय 967.16  
 शारीरिक 139.11  
 शरेष्ट  
 आम कृष 13.5  
 शर्करण  
 पगाई 280.3  
 शर्करव्य  
 कार्बोहाइड्रेट 179.9  
 मधुरव्य 280.11  
 शर्करा  
 ईस शर्करा 280.22  
 खंड 938.1  
 चीनी 280.16  
 पथरी 166.8  
 रेत 100.1  
 शर्करा 280.21 ⇌  
 शर्करा: कफाह  
 गुरु कफाह 682.5  
 शर्करा पुष्प  
 बतारा 280.17  
 शर्करित  
 पगा [पगी] 280.31  
 शर्ट (अं)  
 कमीज़ 585.30

शर्टिंग (अं)  
 कमीज़: कपड़ा 579.16  
 शर्त  
 अनुबंध 339.1  
 चुनौती 917.1  
 दौब 481.17  
 दौब: वस्तु 481.18  
 परंतुक 339.10  
 प्रतिज्ञा 339.17  
 प्रतियोगिता 707.2  
 वैवश्यकता 339.8  
 शर्त 339.11 ⇌  
 शर्त न होना  
 परंतुकता न होना 339.26  
 शर्तनामा  
 अनुबंध पत्र 339.2  
 शर्त पर  
 परंतुकतः 339.50  
 यदि 507.12  
 शर्त पर लगा  
 शर्त पर लगा 339.34 ⇌  
 शर्तबंध  
 अनुबंधित 339.32  
 शर्तयुक्त  
 परंतुकतापूर्ण 339.37  
 शर्त रखना  
 शर्त लगाना 339.25  
 शर्त लगा  
 शर्त पर लगा 339.34  
 शर्त लगा कर  
 दौब लगा कर 481.26  
 शर्त लगाना  
 दौब पर लगाना 481.24  
 शर्त लगाना 339.25 ⇌  
 शर्तहीन  
 परंतुकताहीन 339.38  
 शर्तहीनता  
 अपरंतुकता 339.12  
 शर्तिया  
 अपरंतुकतः 339.51  
 अवश्यमेव 68.21  
 वैवश्यकतापूर्ण 339.36  
 शत प्रति शत 947.32  
 शर्बत  
 शरबत 208.6  
 शर्म  
 कल्याण 710.2  
 लज्जा 845.1  
 विष्णु 768.1  
 सकोच 845.5  
 शर्मद  
 विष्णु 768.1  
 शर्मनाक  
 अश्लील 734.19  
 लज्जाजनक 845.12  
 शर्मसार  
 लज्जित 845.10

शर्म से गठना  
 लज्जित होना 845.6  
 शर्मा  
 ब्राह्मण 731.13  
 शर्माक  
 लज्जाशील 845.11  
 शर्माशर्मा  
 लज्जावश 845.15  
 शर्मा इज्जती  
 लज्जावश 845.15  
 शर्मिदा  
 लज्जित 845.10  
 शर्मीला [शर्मीली]  
 लज्जाशील 845.11  
 शर्मा  
 शिव: आठ रूप सूची 767.26  
 शर्बर  
 अंधकार 286.1  
 शर्बरी  
 रात 48.1  
 सायंकाल 47.13  
 शर्बरीश  
 शिव 767.1  
 शर्बला  
 तोमर 925.2  
 शल  
 भावा: 925.4  
 शूल 925.8  
 शलाम  
 शलाम 189.35 ⇌  
 साग सब्जी सूची 189.4  
 शलजम  
 शलाम 189.35  
 शलभ  
 कीट सूची 122.12  
 टिड्डा 122.25  
 दानव सूची 783.13  
 शलभ 122.42 ⇌  
 शलभ (पूर्वजन्म)  
 प्रह्लाद 769.22  
 शलल  
 साही 127.70  
 साही: रोम 135.5  
 शलवार  
 सलवार 586.6  
 शालाका  
 अस्थि 133.1  
 उँगली 150.13  
 खपची 597.15  
 चीड 13.7  
 तुलिका 404.33  
 बाण 926.16  
 भाला 925.4  
 शलाका 597.16 ⇌  
 सीढ़ी: डंडा 613.9  
 स्वेटर सलाई 562.19  
 शलाका कपाट  
 शलाका कपाट 809.9 ⇌

शालाका पुष्प  
 महापुष्प 839.3  
 शालाका धर्जन  
 प्रिलिंग 195.24  
 शाली  
 साही 127.70  
 शाल्क  
 उराल सूची 985.21  
 खंड 938.1  
 छिलका 116.6  
 छीलन 938.19  
 फल: छिलका 116.10  
 मत्स्य शाल्क 134.18  
 शाल्क कंद  
 शाल्क कंद 111.12 ⇌  
 शाल्कन  
 छिलका उतराई 542.5  
 शाल्कल  
 छाल 116.5  
 फल: छिलका 116.10  
 मत्स्य शाल्क 134.18  
 शाल्कहीन  
 छिलका उतरा 542.19  
 शाल्कित  
 छिलका उतरा 542.19  
 शाल्की  
 मछली 125.1  
 शाल्य  
 अस्थि 133.1  
 कंटक 115.4  
 कटु घन 432.3  
 कील 1016.8  
 पाप 812.1  
 भाला 925.4  
 लोघ्न 14.24  
 शलाका 597.16  
 शाल्य चिकित्सा 174.1  
 शाल्यकंट  
 साही 127.70  
 शाल्यक  
 आपरेशन कर्ता 174.24  
 भाला 925.4  
 द्वण शाल्यक 174.13  
 शाल्य कर्ता  
 आपरेशन कर्ता 174.24  
 शाल्य कर्म  
 आपरेशन 174.3  
 शाल्यकार  
 आपरेशन कर्ता 174.24  
 द्वण शाल्यक 174.13  
 शाल्य चिकित्सक 174.2  
 शाल्य चिकित्सक  
 आपरेशन कर्ता 174.24  
 शाल्य चिकित्सक 174.2 ⇌  
 शाल्य चिकित्सा  
 शाल्य चिकित्सा 174.1 ⇌  
 शाल्य संज्ञ  
 आयुर्वेद: आठ अंग-सूची 172.7



शाल्य पर्व  
 महाभारतः पर्व सूची 771.23  
 शाल्यहीन  
 कंटकहीन 115.16  
 शाल्यादि  
 युधिष्ठिर 771.80  
 शाल्य  
 बल्कल परिधान 583.7  
 शाल्यक  
 बल्कल परिधान 583.7  
 शाल्यकी  
 गंधा बिरोजा 1012.10  
 धीरु 13.7  
 साठी 127.70  
 शय  
 शय 254.1 ⇨  
 शयकूप  
 पारसी रमरान 254.15  
 शयगृह  
 शयगृह 254.8 ⇨  
 शयवाह  
 शयवाह 253.4 ⇨  
 शयवाह करणा  
 शयवाह करणा 253.31 ⇨  
 शयवाह कर्ता  
 शयवाह कर्ता 253.37 ⇨  
 शयवाह स्थान  
 रमरान 254.9  
 शय परीक्षा  
 शय परीक्षा 251.13 ⇨  
 शय पेटी  
 ताबूत 254.7  
 शय भस्मी  
 शय भस्मी 205.8 ⇨  
 शय यात्रा  
 शय यात्रा 253.2 ⇨  
 शय यात्रा निकलना  
 शय यात्रा निकलना 253.30 ⇨  
 शय यात्री  
 शय यात्री 253.36 ⇨  
 शय यान  
 अरथी 254.4  
 शयर  
 शिव 767.1  
 शय रथ  
 अरथी 254.4  
 शय बाहिका  
 शय बाहिका 1070.13 ⇨  
 शय बाहिनी  
 शय बाहिका 1070.13  
 शय सभाधि  
 बरुंगार्ड 253.12  
 शय स्नान  
 मृतक स्नान 253.3  
 शयान्ति  
 चितान्ति 254.13  
 शयान्ति  
 कफन 254.5

शयान्तिकारी भूत  
 वेताल 766.11  
 शयान्ति  
 करगोश 127.63  
 छह 948.27  
 पुरुष भेद सूची 236.16  
 शयान्तिक  
 करगोश 127.63  
 शयान्ति  
 बापु गिद्ध 126.29  
 शयान्ति  
 चंद्रमा 8.2  
 शयान्ति मीनि  
 शिव 767.1  
 शयान्ति  
 विमर्श 330.11  
 शयान्तिक  
 चंद्रमा 8.2  
 शयान्तिक शोखर  
 शिव 767.1  
 शयान्तिकोपल  
 चंद्रकांत मणि 96.17  
 शयान्ति  
 करगोश 127.63  
 शयान्ति  
 गिद्ध 126.26  
 बापु गिद्ध 126.29  
 शयान्ति  
 एक. उपमान सूची 948.18  
 चंद्रमा 8.2  
 शयान्ति चक्र  
 नक्षत्र चक्र 4.3  
 शयान्ति  
 शिव 767.1  
 शयान्तिनी  
 चंद्र कला सूची 8.4  
 शयान्तिप्रभ  
 कुमुद 14.9  
 मोती 97.2  
 शयान्ति प्रभा  
 चौदनी 287.6  
 शयान्तिभूषण  
 शिव 767.1  
 शयान्ति विषाण  
 अर्थ चंद्रमा: छोर 8.7  
 शयान्तिशाला  
 शीरा महल 602.33  
 शयान्ति शोषक  
 कृष्ण पक्ष 45.2  
 शयान्तिशुत  
 बुध ग्रह 7.5  
 शयान्ति  
 चंद्रमा 8.2  
 शयान्तिपंज  
 दुबिया 501.1  
 शयान्ति पंज  
 विमर्श 330.11

शयान्तिक  
 शफरी 125.12  
 शयान्तिकी  
 कान: छिद्र 142.2  
 शयान्तिक  
 आहत 168.6  
 प्रवासित 841.29  
 विस्तीर्ण 981.10  
 शयान्तिकता  
 विस्तीर्णता 981.1  
 शयान्तिक  
 पुस्तक. अंत 447.13  
 स्तोत्र 741.16  
 शयान्तिक  
 आयुध 922.1  
 उपकरण 558.7  
 तलवार 924.7  
 शयान्तिक 922.2 ⇨  
 शयान्तिक अभ्यास स्थल  
 शयान्तिक अभ्यास स्थल 930.3 ⇨  
 शयान्तिककार  
 शयान्तिक निर्माता 929.9  
 शयान्तिक कौच  
 म्यान 924.12  
 शयान्तिक घात  
 शयान्तिक प्रहार 918.7  
 शयान्तिक धुमाना  
 शयान्तिक धलाना 930.5  
 शयान्तिक बलाना  
 शयान्तिक बलाना 930.5 ⇨  
 शयान्तिक बालक  
 शयान्तिक संचालक 930.19  
 शयान्तिक पूर्ण  
 लोह पूर्ण 93.10  
 शयान्तिकजीविता  
 सैनिकता 932.2  
 शयान्तिकजीवी  
 आयुधजीवी 922.11  
 योद्धा 934.15  
 सैनिक 934.1  
 शयान्तिक धारण  
 शयान्तिक धारण 930.1 ⇨  
 शयान्तिक धारण करणा  
 शयान्तिक धारण करणा 930.4 ⇨  
 शयान्तिकधारी  
 योद्धा 934.15  
 शयान्तिकधारी 930.6 ⇨  
 सैनिक 934.1  
 शयान्तिक ध्वनि  
 शयान्तिक ध्वनि 296.17 ⇨  
 शयान्तिक निर्माण  
 शयान्तिक निर्माण 929.1 ⇨  
 शयान्तिक निर्माण शाला  
 शयान्तिक निर्माण शाला 929.2 ⇨  
 शयान्तिक निर्माता  
 शयान्तिक निर्माता 929.9 ⇨  
 शयान्तिक पूजा  
 दशहरा 57.9

शयान्तिकपूत  
 युद्ध मृत 249.26  
 शयान्तिक प्रहार  
 शयान्तिक प्रहार 918.7 ⇨  
 शयान्तिक प्रहारण  
 शयान्तिक संचालन 930.2  
 शयान्तिक बनाना  
 शयान्तिक बनाना 929.7 ⇨  
 शयान्तिकमार्ज  
 शयान्तिक मार्जक 929.10  
 शयान्तिक मार्जक  
 शयान्तिक मार्जक 929.10 ⇨  
 शयान्तिक मार्जण  
 शयान्तिक मार्जण 929.6 ⇨  
 शयान्तिक मार्जण करणा  
 शयान्तिक मार्जण करणा 929.8 ⇨  
 शयान्तिक विद्या  
 युद्ध विद्या 907.28  
 शयान्तिकशाला  
 शयान्तिकशाला 929.3  
 शयान्तिक संचालक  
 शयान्तिक संचालक 930.19 ⇨  
 शयान्तिक संचालन  
 शयान्तिक संचालन 930.2 ⇨  
 शयान्तिक सज्जा  
 आयुध 922.1  
 शयान्तिक धारण 930.1  
 शयान्तिक सज्जित  
 शयान्तिकधारी 930.6  
 शयान्तिक सज्जित होना  
 शयान्तिक धारण करणा 930.4  
 शयान्तिक समर्पक  
 युद्ध समर्पक 916.28  
 शयान्तिक समर्पण  
 युद्ध समर्पण 916.9  
 शयान्तिकहीन  
 शयान्तिकहीन 930.7 ⇨  
 शयान्तिकशाला  
 शयान्तिकशाला 929.3 ⇨  
 शयान्तिकशाला  
 शयान्तिक प्रहार 918.7  
 शयान्तिकजीव  
 सैनिक 934.1  
 शयान्तिकयस  
 इस्पात 93.11  
 लोहा 93.7  
 शयान्तिक  
 आयुध 922.1  
 शयान्तिक  
 शयान्तिकधारी 930.6  
 शयान्तिक  
 शयान्तिकधारी 930.6  
 शयान्तिककरण  
 शयान्तिककरण 907.7 ⇨  
 शयान्तिककृत  
 शयान्तिककृत 907.45 ⇨  
 शयान्तिकीय  
 आयुधीय 922.10

## शस्त्रोपजीवी

### शस्त्रोपजीवी

आयुष्यजीवी 922 11

### शस्त्रोपयोग

शस्त्र संचालन 930.2

### शस्त्र

प्रशासनीय 841.30

फल 116.1

क्रसल 547.1

शस्य 111.8 ⇨

### शस्यधन

क्रसल नाशक 549.11

### शस्यता

वनस्पतियुक्तता 111.2

### शस्य ध्वंसी

क्रसल नाशक 549 11

### शस्यपाल

कृषि रक्षक 550.2

### शस्यपूर्ण

वनस्पतियुक्त 111.31

### शस्यशाली

आहार संपन्न 626.13

### शस्य इथामल

वनस्पतियुक्त 111.31

### शस्य इथामलता

वनस्पतियुक्तता 111.2

### शस्य संपन्नता

आहार संपन्नता 626.2

### शस्यहीनता

क्रसल नाशक 549.11

### शस्यहीन

वनस्पतिहीन 111.32

### शस्यहीनता

वनस्पतिहीनता 111.3

### शस्यगार

अनाज गोदाम 670.18

### शाहशाही

धनाढ्योचित 626 17

राज वैभवशाली 226 17

राजा पद 882 8

राजा योग्य 882 35

राज्यीय 881.32

### शाह

उकसावा 499 4

समर्थन 885.7

सहयोग 700.1

सहायता 700 11

### शाहजोरी

अधिकारहीनतः 898.4

### शाहतीर

मस्तूल 1073.11

मस्तूलः शाहतीर 1073 15

शाहतीर 611.22 ⇨

### शाहवृत

आष फल सूची 190 2

शाहवृत 190.33 ⇨

### शाहव

मधु 280.9

### शाहव की छुरी

मित्रद्रोही 827.20

### शाहव की मक्खी

मधुमक्खी 122.39

### शाहव छप्ता

मधुमक्खी छप्ता 603.5

### शाहनाई

मंगल वाद्य सूची 796.12

रोशन चौकी सूची 461.10

शाहनाई 461.82 ⇨

### शाहनाईनबाज़

शाहनाई वादक 461.83

### शाहनाई बजना

वद्ययात्रा चलना 799 56

विवाह कार्य होना 799.41

### शाहनाई वादक

शाहनाई वादक 461.83 ⇨

### शाह पर

उकसावे से 499.14

सहायता से 700.28

### शाहबाला

शाहबाला 801.14 ⇨

### शाहर

नगर 620.10

### शाहर कोतवाल

नगर प्रशासक 891.7

### शाहरगश्त

गरती पहरेदार 908.15

### शाहरगिर्ग

गरती पहरेदार 908.15

### शाहरः चारों ओर सड़क

रिंग रोड 1063.38

### शाहरपनाह

दुर्ग परकोटा 604 14

### शाहरबदर

क्षेत्र निर्वासित 870.26

### शाहरयार

सम्राट 882.24

### शाहरयारी

राजा पद 882.8

### शाहराती

नगर वासी 616.24

नगरीय 620.23

नागरतापूर्ण 733.16

### शाहरातीपन

नागरता 733 5

### शाहरी

नगर वासी 616.24

नगरीय 620.23

नागरतापूर्ण 733.16

### शाहरीपन

नागरता 733.5

### शाहरी सड़क

शाहरी सड़क 1063.37 ⇨

### शाहवत

भोग लिप्ता 363.4

### शाहसवार

कुराल अम्बारोही 1062.7

### शाह से

उकसावे से 499.14

### शाहावत

आत्मबलि 754.3

युद्ध मृत्यु 249.7

साक्ष्य 676.12

### शाहावत वर्णन

मरसिया 452.24

### शाहाना

राजा योग्य 882.35

राज्यीय 881.32

शासकीय 890.20

### शाहाना बूका

लाल बूका 802.13

### शाहाना जोका

वधू वस्त्र 802.23

वर वस्त्र 802.24

### शाही

राज वैभवशाली 226.17

### शाहीव

बलिदत्त 754.21

युद्ध मृत 249.26

### शाहीव विवस

शाहीव विवस 58.16 ⇨

### शाहीव होना

युद्ध में मरना 249.20

### शाहीवी

बलि विधायक 754.20

### शाहीवे करबला

बुसिन 791 28

### शांकर

बैल 127.13

शिव विषयक 767.2

सींक 127.12

### शांकरि

गणेश 773.22

स्कन्द 773.50

### शांकरी

शिव सूत्र 740.52

### शांछायन

ऋषि मुनि सूची 789.17

### शांछिक

शंख वादक 461.81

### शांछिव्य

ऋषि मुनि सूची 789 17

### शांत

अचंचल 860.25

अनातुर 497.5

अप्रवाहित (जल) 21.40

आवेशहीन 372.12

उत्साहहीन 492.13

क्रोधहीन 372.13

गतिविधिहीन 503.13

गतिहीन 1042.12

धैर्यहीन 394.15

ध्वनिहीन 295.4

निरुद्धिन् 378.9

निरुचल 1036.8

पापहीन 813.9

प्रवाहहीन 1041.9

प्रशान्त 372.10

बुझा [बुझी] 108.18

भावहीन 358.29

मीन 429.22

विनम्र 733.19

विष्णु 768.1

शांत 372.9 ⇨

शांतिपूर्ण 906.13

शांतिपूर्ण 906.13

शांतिपूर्ण 372.8

शांति प्रेमी 906.15

शिव 767.1

शिवः शांत रूप 767.24

संतोषहीन 360.19

स्थिरचित्त 355.6

### शांत करना

आग बुझाना 108.12

सांत्वना देना 393.12

### शांतचित्त

अनातुर 497.5

अनासक्त 366.5

स्थिरचित्त 355.6

### शांतचित्तता

अनातुरता 497.2

अनासक्ति 366.1

स्थिरचित्तता 355.2

### शांतवेता

स्थिरचित्त 355 6

### शांततः

भावहीनतः 358.32

### शांतता

आवेशहीनता 372.3

गतिहीनता 1042.3

### शांतनु

शांतनु 771.89 ⇨

### शांतनुः पत्नी

सत्यवती 771.95

### शांत रस

नवरस सूची 455.11

शांत रस 455.19 ⇨

### शांत स्वभाव

शांत स्वभाव 837.5 ⇨

### शांत स्वभावी

शांत स्वभावी 837.14 ⇨

### शांत होना

क्रोध भिटना 372.7

निरुचल होना 1036.5

प्रशान्त होना 372.6

शांत होना 372.5 ⇨

### शांता

दशरथः पुत्री 770.36

### शांति

अनातुरता 497.2

अनासक्ति 366.1

आवेशहीनता 372.3

क्रोधहीनता 372.4

गतिविधिहीनता 503.5  
 तंत्र क्रिया सूची 758.5  
 ध्वनिहीनता 295.1  
 निरव्यवस्था 1038.2  
 प्रशमता 372.2  
 भावहीनता 358.17  
 मीन भाव 429.3  
 युद्ध अंत 906.3  
 राहत 171.12  
 शांत रस 455.19  
 शांति 372.1 ⇌  
 शांति काल 906.1  
 संतोष 380.5  
 सांत्वना 393.4  
 सुरक्षा 908.4  
 सुरासितता 893.3  
 स्थिरचित्तता 355.2  
 शांति कपोत  
 फ़ाख़ला 128.52  
 शांतिकर  
 प्रशामक 372.11  
 शांति स्थापक 906.14  
 शांतिकरण यंत्र  
 शांतिकरण यंत्र 758.25 ⇌  
 शांतिक्वाम  
 शांति प्रेमी 906.15  
 शांतिकारक  
 शांति स्थापक 906.14  
 शांतिकारी  
 प्रशामक 372.11  
 शांति काल  
 शांति काल 906.1 ⇌  
 शांतिगृह  
 रेन्ट हाउस 1090.27  
 शांतिव  
 राहत दाता 171.23  
 विष्णु 768.1  
 शांतिनाथ  
 तीर्थंकर सूची 792.2  
 शांति पर्व  
 महाभारतः पर्व सूची 771.23  
 शांति पाठ  
 भरत वाक्य 465.6  
 स्वस्ति वाचन 710.5  
 शांतिपूर्ण  
 घटनाहीन 75.16  
 ध्वनिहीन 295.4  
 निरव्यव 1038.8  
 शांतिपूर्ण 372.8 ⇌  
 शांतिपूर्ण 906.13 ⇌  
 शांतिपूर्णता  
 ध्वनिहीनता 295.1  
 शांतिपूर्ण होना  
 शांत होना 372.5  
 शांतिपूर्णक  
 ध्वनिहीनताः 295.6  
 शांतिप्रव  
 प्रशामक 372.11

शांति स्थापक 906.14  
 शांतिप्रिय  
 शांति प्रेमी 906.15  
 शांति प्रेम  
 शांति प्रेम 906.2 ⇌  
 शांति प्रेमी  
 शांति प्रेमी 906.15 ⇌  
 शांति भंग  
 उपद्रव 903.1  
 युद्ध आरंभ 907.1  
 शांति मंत्र  
 मंत्र सूची 741.4  
 शांति विग्रह  
 युद्ध आरंभ 907.1  
 शांति व्यवस्था  
 सुरासितता 893.3  
 शांति शांति शांतिः  
 समापनः उक्ति सूची 522.7  
 शांति स्थापक  
 शांति स्थापक 906.14 ⇌  
 शांति स्थापना  
 युद्ध अंत 906.3  
 शांतिहीन  
 उपद्रवग्रस्त 903.16  
 शांतिहीनता  
 उपद्रवग्रस्तता 903.2  
 युद्ध 905.4  
 शांति होना  
 युद्ध अंत होना 906.10  
 शांकर  
 जादूगर 474.11  
 दानवीय 783.31  
 शिव 767.1  
 शांकरिक  
 प्रेत साधक 759.13  
 शांकी  
 जादू 474.2  
 जादूगरनी 474.12  
 माया दर्शन 342.4  
 शांभव  
 देवदारु 13.10  
 शिवः पुत्र 767.21  
 शिव विषयक 767.2  
 शैव संप्रदायः सदस्य 737.54  
 शांभवी  
 नयकुमारी सूची 774.29  
 शिवरंज 138.5  
 शाहस्तगी  
 शिष्टता 733.7  
 सन्धीकरण 733.1  
 शाहस्ता  
 उच्च कुलीन 728.15  
 शिष्ट 733.18  
 हलील 733.17  
 सज्जन 817.7  
 सम्य 733.13  
 शाकंभरी  
 कृषि देवी सूची 774.5

दुर्गा 776.7  
 देवी 774.49  
 शाकंभरी 774.90 ⇌  
 शाकंभरीय  
 शिरीष 13.21  
 शाक  
 शक जातीय 732.21  
 शाक 111.9 ⇌  
 शाक पात 189.2  
 साग 201.21  
 साग सखी 189.1  
 शाकः खेत  
 शाकः खेत 551.10 ⇌  
 शाकजीवी  
 शाकाहारी 204.6  
 शाकट  
 जुता [जुती] 1079.21  
 जोत पशु 127.6  
 ठेले वाला 1071.7  
 यान आरूढ़ 1082.31  
 शाकटिक  
 गाड़ीवान 1079.9  
 जुता [जुती] 1079.21  
 जोत पशु 127.6  
 ठेले वाला 1071.7  
 यान आरूढ़ 1082.31  
 शाकटी  
 ठेले वाला 1071.7  
 शाकटीन  
 जुता [जुती] 1079.21  
 यान आरूढ़ 1082.31  
 शाक बायनी  
 शाकंभरी 774.90  
 शाक देवी  
 शाकंभरी 774.90  
 शाक दुम  
 सागीन 13.25  
 शाक पत्र  
 सहजन 13.24  
 शाक पात  
 शाक पात 189.2 ⇌  
 शाक मिर्च  
 शाक मिर्च 278.7 ⇌  
 शाक बाटिका  
 शाकः खेत 551.10  
 शाकवीर  
 बधुआ 189.28  
 शाक शस्य  
 शस्य 111.8  
 शाक श्रेष्ठा  
 ईंगन 189.29  
 शाकांग  
 काली मिर्च 278.4  
 शाका  
 पंचांग 41.1  
 हड़ 281.37  
 शाकास्ल  
 इनली 277.8

शुक 277.13  
 शाकारी  
 प्राकृत सूची 421.9  
 शाकाहार  
 निरामिष आहार 204.2  
 शाकाहारिता  
 निरामिषता 204.1  
 शाकाहारी  
 शाकाहारी 204.6 ⇌  
 शाकिनी  
 शाकः खेत 551.10  
 शाकुनिक  
 पक्षी आखेटक 252.11  
 शाकुन  
 पक्षी आखेटक 252.11  
 शाकुनिक  
 पक्षी आखेटक 252.11  
 शाकुनक 262.17  
 शाक  
 शाक संवत में 42.30  
 शाकोपजीवी  
 शाकाहारी 204.6  
 शाक्त  
 तंत्रीय 758.39  
 शाक्ति विषयक 774.105  
 शाक्तीय 487.19  
 सांनिभ 205.3  
 शाक्त संत्र  
 तंत्र शास्त्र 758.2  
 शाक्त मत  
 शाक्त संप्रदाय 737.52  
 शाक्त संप्रदाय  
 शाक्त संप्रदाय 737.52 ⇌  
 शाक्तांगम  
 तंत्र शास्त्र 758.2  
 शाक्तिक  
 तंत्रीय 758.39  
 शाक्तीय 487.19  
 शाक्तीक  
 शाक्ति विषयक 774.105  
 शाक्य  
 गीतम बुद्ध 793.1  
 बौद्ध भिक्षु 790.27  
 शाक्य मुनि  
 गीतम बुद्ध 793.1  
 शाक्य सिंह  
 गीतम बुद्ध 793.1  
 शाक  
 ऐंद्र 773.53  
 शाक्ती  
 शाक्ती 774.89  
 शाकु  
 कतला 938.5  
 कमाना 1076.24  
 वंश 727.1  
 शाखा 937.7  
 शाखा 114.10

## शास्त्रज्ञा

### शास्त्रज्ञा

प्रशाखा 114.11  
विषया आरोप 876.10

### शास्त्रज्ञा बंबी

कलम लगाई 548.11

### शास्त्रज्ञ

शास्त्रज्ञ 117.6 ⇨

### शास्त्रज्ञा

छाया वृक्ष 111.19

### शाखा

अध्याय 447.2  
कोटि 936.1  
धर्म 735.1  
नृजाति 730.14  
भुजा 149.5  
वंश शाखा 727.2  
वाद्य 343.10

### शाखा

शाखा 114.10

### शाखा

शाखा 114.10 ⇨  
शाखा 937.7 ⇨  
शाखा कार्यालय 654.6  
समाज वर्ग 888.7

### शाखा उपशाखा

शाखा प्रशाखा 114.9

### शाखा कार्यालय

शाखा कार्यालय 654.6 ⇨

### शाखा कृष

शाखा कृष 1086.13 ⇨

### शाखा चक्रमण

शाखा कृद 1086.13

### शाखा नगर

उपनगर 820.11

### शाखा नदी

वितरिका नदी 20.2

### शाखा निकलना

शाखा निकलना 117.14 ⇨

### शाखापत्तयहीन तना

शाखापत्तयहीन तना 114.8 ⇨

### शाखा: पुष्प समूह

शाखा पुष्प समूह 115.8 ⇨

### शाखा प्रशाखा

शाखा प्रशाखा 114.9 ⇨

### शाखा फूटना

शाखा निकलना 117.14

### शाखा फैलना

शाखा निकलना 117.14

### शाखा मृग

गिलहरी 127.64

बंदर 127.86

### शाखायुक्त

शाखायुक्त 114.15 ⇨

### शाखाल

बैंत 923.8

### शाखा शिफा

जटा 112.17

### शाखा से निकली जड़

जटा 112.17

### शाखाहीन

शाखाहीन 114.16 ⇨

### शाखी

वृक्ष 111.18

शाखायुक्त 114.15

### शाखीय

विभागीय 937.13

### शाखोष्णार

वंशानुकीर्तन 727.15

### शागिर्द

प्रशिक्षु 321.47

शिष्य 323.24

### शागिर्दानी

गुरु दक्षिणा 665.6

### शागिर्दी

प्रशिक्षुता 321.21

शिष्य भाव 323.25

### शाटक

वस्त्र: कटपीस 579.23

### शाटी

वस्त्र 579.1

साड़ी 586.16

### शाउच

दुर्जनता 818.1

### शाण

टाट 580.16

सान 559.34

### शाणी

सान 559.34

### शाणोपल

सान. पत्थर 559.35

### शात

तीक्ष्ण 270.19

### शातता

तीक्ष्णता 270.6

### शातन

सान धराई 564.7

### शातिर

अति अनुभवी 303.18

कुटिल 818.7

कूटनीतिज्ञ 819.16

दौषबाज़ 819.19

दुर्जन 818.5

प्रवीण 303.22

### शात्रव

शत्रुतापूर्ण 706.15

### शाद

आनंदित 382.17

आवासित 618.23

समृद्ध 626.11

### शादकाम

पूर्णच्छ 361.13

सफल 512.6

### शादकामी

सफलता 512.1

### शाबदान

आनंदित 382.17

सूची 390.10

### शाबाव

सिंहित 548.55

### शाबिधाना

मंगल बघाई 841.23

मंगल वाद्य 796.11

मंगल वाद्य छवि 796.10

विवाह गीत 796.20

### शाबी

प्रसन्नता 381.1

विवाह 799.1

सुख 390.2

### शाबी का जोका

विवाह वस्त्र 802.22

### शाबी का दिन

विवाह दिवस 799.34

### शाबी का रिचता

विवाह संबंध 724.1

### शाबी की बात

विवाह प्रस्ताव 799.29

### शाबी छराजत

विवाह लोप 804.11

### शाबी जोकना

तलाक़ देना 804.23

### शाबी कुमाना

विवाह करना 799.45

### शाबी ब्याह

विवाह रस्म रिवाज 800.1

### शाबी रधाना

विवाह करना 799.45

### शाबीसुबा

विवाहित 799.64

विवाहिता 799.65

### शाबी होना

विवाह होना 799.42

### शादल

घास मैदान 11.5

धरागाह 556.10

हरा 289.69

### शादलता

वनस्पतियुक्तता 111.2

### शान

अभिमान गति 1084.2

आन 349.3

इतराहट 860.5

ख्याति 847.1

गीरव 849.4

धमक दमक 287.23

डींग 842.4

दर्प 858.5

नाज़ नख़रा 860.1

प्रताप 849.5

वैभव 226.5

### शानची

दर्पी 858.13

शेखीख़ोर 842.16

सुलभिमन्यक 400.21

### शानचीपना

सुलभिमन्यता 400.7

### शान झोला

बाली धोला 673.5

### शानदार

तड़कभड़कदार 226.14

धनाढ्योचित 626.17

मध्यदूरयतापूर्ण 402.4

राजा योग्य 882.35

वैभवशाली 226.15

### शान विद्याना

अभिमान प्रदर्शन करना 858.8

### शान बघारना

गाल बजाना 842.8

डींग मारना 842.9

शेखी मारना 842.10

### शान बैंग (डीं)

बाली धोला 673.5

### शान मारना

दर्प करना 858.9

### शान शीक़त

तड़क भड़क 226.4

वैभव 226.5

### शान से चलना

अभिमान से चलना 1084.28

### शाना

ताना: कंधी 562.17

भोका 585.64

स्कंध 147.3

### शाने बशाने

पार्ष्वधरतः 696.28

### शाप

कटु वचन 432.3

वर्जित दूर्य सूची 483.28

शाप 713.1 ⇨

### शाप उतरना

शापमुक्त होना 713.7

### शापग्रस्त

शापित 713.8

### शाप जल

शाप जल 713.3 ⇨

### शापथिक

शापथपूर्ण 339.48

### शापब

शापप्रद 713.9

### शाप बात

शाप वाला 713.10 ⇨

### शाप बान

शाप प्रदान 713.2

### शाप देना

शाप देना 713.6 ⇨

### शापन

शाप प्रदान 713.2

### शाप निवारक

शाप मोचक 713.12

### शाप निवारण

शाप मोचन 713.5

शाप निवृत्त  
शापनुक्त 713.11  
शापप्रद  
शापप्रद 713.9 ⇨  
शाप प्रदान  
शाप प्रदान 713.2 ⇨  
शापनुक्त  
शापनुक्त 713.11 ⇨  
शापनुक्त होना  
शापनुक्त होना 713.7 ⇨  
शाप मोचक  
शाप मोचक 713.12 ⇨  
शाप मोचन  
शाप मोचन 713.5 ⇨  
शापस्त्र  
शाप दाता 713.10  
शापांत  
शाप मोचन 713.5  
शापांतक  
शाप मोचक 713.12  
शापांतु  
शाप जल 713.3  
शापित  
शापित 713.8 ⇨  
शापोत्सर्ग  
शाप प्रदान 713.2  
शापोदक  
शाप जल 713.3  
शापोन्धार  
शाप मोचन 713.5  
शाफरिक  
मत्स्य आखेटक 252.16  
शाफ्रा  
फाहा 174.19  
ब्रण पट्टी 174.16  
शाबर  
शाबर जातीय 732.22  
शाबरी  
प्राकृत सूची 421.9  
शाबान  
हिजरी मास सूची 43 5  
शाबान: 15वीं रात  
शबे बरात 57.52  
शाबारा  
शाबारी: उद्गार सूची 841.40  
शाबारी  
शाबारी 841.21 ⇨  
शाबारी: उद्गार सूची  
शाबारी उद्गार सूची 841.40 ⇨  
शाबारी देना  
शाबारी देना 841.28 ⇨  
शाब्द  
शब्दीय 423 12  
शाब्दिक  
अभिधात्मक 426.29  
शब्दीय 423.12  
शाब्दिक अर्थ  
अभिव्यक्ति 426.4

शाब्दी  
नीचिक 412.43  
शब्दीय 423.12  
शाम  
जल्दी रात में 48 15  
सायंकाल 47.13  
शामक  
अग्नि शामक 108.19  
प्रशामक 372 11  
राहत दाता 171.23  
स्वास्थ्यप्रद 181 6  
शाम का तारा  
सायंकालीन शुक 7.11  
शाम की लाली  
सांध्य लालिमा 287.15  
शाम को  
सायंकाल में 47 22  
शाम: खाना  
सांध्य आहार 199.4  
शामत  
दुर्दशा 827.8  
दुर्भाग्य 260.18  
संकट 909.1  
शामत का मारा  
संकटग्रस्त 909.19  
शामतप्रदा  
संकटग्रस्त 909 19  
शामती  
दुर्भाग्यशाली 260.34  
संकटग्रस्त 909 19  
शामन  
अग्नि शामन 108 6  
दमन 911 4  
शामलात  
सहकर्म 700 3  
साझेदारी 821 7  
शामलाती  
साभूहिक 690 13  
शामित्र  
यज्ञ भांड 753.22  
शामियाना  
शामियाना 600.17 ⇨  
सरकस स्थान 482.22  
शामिल  
समागत 694.31  
समाविष्ट 1002 21  
सहकर्मी 700.22  
शामिल करना  
आप्रवेश देना 1002 14  
शामिलात  
अंशाधिकार 623 9  
शामिलाती  
पंचायती 892 12  
साझे का 621.27  
शामी  
धातु में लाली 923.10  
शामीन  
यज्ञ घमस 753.23

शामे अवध  
अवध: सायंकाल 47.16  
शायक  
तलवार 924.7  
शायक  
आपति 326.4  
संभवत: 68.19  
शायर  
कवि 448.13  
शायराना  
काव्यात्मक 451.29  
शायरी  
अतिशयोक्ति 434.4  
काव्य 451 7  
शाया  
प्रकाशित 420 9  
शाया करना  
प्रकाशित करना 420.8  
शायिका  
शायिका 1076.17 ⇨  
स्लंभरेट 1076.18  
शायित  
शयित 1027 15  
शायिता  
शायिता 1027 7 ⇨  
शायिनी  
स्लंभरेट 1076.18  
शायी  
शायी 1027.16 ⇨  
शारंग  
कमल 14 4  
कामदेव 773 12  
धनुष 926 8  
भ्रमर 122.33  
राग रागिनी सूची 457 24  
विष्णु: धनुष 926 11  
सारंगी 461.86  
शारंगधारी  
धनुषधारी 930 13  
शारंगपाणि  
शिव 767 1  
शारंगा  
सारंगा 1072.25  
शारंगाधुध  
धनुषधारी 930 13  
शारंगिका  
सारंगी 461 86  
शारंगी  
धनुषधारी 930.13  
सारंगी 461 86  
शारद  
खरीफ फ़सल 547 7  
शरद कालीन 53.15  
श्वेत कमल 14.7  
शारद ज्योत्स्ना  
शरद चाँदनी 287.7  
शारद निशा  
शरद ऋतु: रात 48.7

शारद यामिनी  
शरद ऋतु: रात 48.7  
शारद रात्रि  
शरद ऋतु: रात 48.7  
शारद शर्बरी  
शरद ऋतु: रात 48.7  
शारदा  
दुर्गा 776.7  
सरस्वती 775.8  
शारदिक  
शरद धूप 287.9  
शारदी  
शरद कालीन 53.15  
शरद पूर्णिमा 57.26  
शारदीय  
शरद कालीन 53.15  
शारदीय क्रांतिपात  
शरद विषुव 5.23  
शारदीय विषुव  
शरद विषुव 5.23  
शारदेय  
शरद कालीन 53.15  
सरस्वती विषयक 775 10  
शारघ  
शरद कालीन 53.15  
शारङ्ग  
कृपाचार्य 771.51  
शारिका  
कमानचा 461 93  
शारि पट्ट  
विज्ञान 479.33  
शारिपुत्र  
बुद्ध शिष्य सूची 793 12  
शारीर अभिनय  
शारीर अभिनय 464.20 ⇨  
शारीरक सूत्र  
इष्टम सूत्र 740.45  
शारीरिक  
शारीरिक 139.11 ⇨  
शारीरिक पीड़ा  
शारीरिक पीड़ा 392.4 ⇨  
शारीरिक बल  
शारीरिक बल 160.2 ⇨  
शारीरिकी चिकित्सा  
काय चिकित्सा 173.3  
शार्क चर्म  
शार्क चर्म 582.11 ⇨  
शार्क मछली  
हॉगुर 125.15  
शार्कर  
दरदरा [दरदरी] 540.18  
शार्क स्किन (ऑ)  
शार्क चर्म 582.11  
शार्क  
धनुष 926.8  
विष्णु: धनुष 926.11  
शार्कधारी  
धनुषधारी 930.13

## शाङ्गपाणि

### शाङ्गपाणि

- विष्णु 788 1  
शाङ्गी  
धनुषधारी 930.13  
विष्णु 788.1  
शार्ट शार्ट स्टोरी (ऑ)  
लघु कथा 450 11  
शाङ्गल  
उत्तमता: उपमान सूची 313.4  
कीता 127.53  
बाघ 127.55  
वीर पुरुष 396.2  
सिंह 127 50  
शार्ब  
शिव विषयक 767.2  
शार्बर  
गहन अंधकार 286.2  
रात विषयक 48.13  
शाल  
उपहार परिधान सूची 583.23  
शाल 585.17 ⇨  
शाल आदि  
हलका उदाहन 593.4  
शालग्राम  
विष्णु मूर्ति सूची 746.7  
शालग्राम बटी 938 47  
शालग्राम बटी  
शालग्राम बटी 938.47 ⇨  
शालग्राम बटी  
शालग्राम बटी 938 47  
शाल दुशाला  
शाल 585 17  
शालब  
लोप्र 14.24  
शाल बूध  
साल 13 26  
शालशाला  
शालग्राम बटी 938.47  
शालाकी  
पुतली 406.6  
शाला  
कमरा 614 1  
गृह 601 1  
चित्रशाला 669 12  
भवन 602.7  
सभागार 695.1  
-शाला (जैसे: चित्रशाला)  
संग्रहालय 669.8  
शाला कर्म  
भवन निर्माण 598 1  
शालाकी  
भालाघारी 930.16  
शालाक्य  
आपरेषान 174 3  
शाल्य चिकित्सक 174 2  
शाल्य चिकित्सा 174 1  
शालाक्य तंत्र  
आयुर्वेद: आठ अंग सूची 172.7

- शालामुख  
मुख्य द्वार 608.7  
शालामृग  
कुता 127.71  
शालार  
दीवार: चौंटी 1016.17  
सोपान पथ 613.10  
शालि  
खरीक फ़सल 547.7  
घावल 187.9  
धान 187.11  
धान सूची 187.12  
शालिका  
चित्रशाला 669.12  
शालिग्राम  
शालग्राम बटी 938.47  
शालिता  
सहितता 1006.1  
शालिनी  
गृहस्थिन 235.4  
पत्नी 803.6  
शालिहोत्री  
घोडा 127.35  
शाली  
गृहपति 235.5  
शाली [शालिनी]  
सहित 1006.2  
-शाली [-शालिनी]  
सहित: प्रत्यय सूची 1006 5  
शालीन  
आतिथेय 183.15  
धनाढ्य 626.14  
लज्जारील 845.11  
विनम्र 733.19  
शिष्ट 733.18  
सभ्य 733 13  
शालीन [शालिनी]  
उच्च कुलीन 728.15  
शालीन [शालीना]  
उच्च कुलीन 728.15  
शालीनतः  
शिष्टतः 733.22  
शालीनता  
उच्च कुलीनता 728.3  
विनम्रता 733.8  
शिष्टता 733 7  
सम्पीकरण 733.1  
शालीना  
सीफ 281.36  
शालुक  
कमल मूल 112.14  
शालेय  
धान: खेत 551.7  
शाल्यलि द्वीप  
पीराणिक महाद्वीप सूची 26 7  
शाल्यली  
गरुड 777 15  
नरक सूची 269.7

- पीराणिक नदी सूची 20.23  
शाब  
पशु पक्षी: शिशु 230.6  
मरण अशीव 198.9  
शाबक  
पशु पक्षी: शिशु 230.6  
शिशु 230.3  
शाबक [शाबका]  
पशु: शिशु 230.11  
शाभ्यत  
अनश्वर 37.9  
अपरिवर्तनशील 533.10  
ईश्वर 764.1  
ब्रह्म 764.24  
विष्णु 768.1  
शाश्वत 37.7 ⇨  
शाश्वतता  
अनश्वरता 37.3  
शाश्वतता 37.1 ⇨  
शाश्वतता (डे.)  
अपरिवर्तनशीलता 533.2  
शाश्वत सत्य  
शाश्वत सत्य 820.6 ⇨  
शासक  
अनुशासक 893.16  
दंड दाता 870.23  
राजा 882.6  
व्यवस्थापक 893.14  
शासक 890.5 ⇨  
शासक त्रय  
तीन सदस्यीय शासक मंडल 890.7  
शासक मंडल  
शासक मंडल 890.6 ⇨  
शासक बर्ग  
शासक मंडल 890.6  
शासकीय  
शासकीय 890.20 ⇨  
शासन  
आज्ञा 347.1  
धर्म ग्रंथ 738.1  
नियंत्रण 899.10  
शासन 890.1 ⇨  
स्मृति ग्रंथ 740.55  
शासन अध्यक्ष  
शासन अध्यक्ष 882.4 ⇨  
शासन अवज्ञा  
शासन अवज्ञा 348.2 ⇨  
शासन करना  
शासन करना 890.16 ⇨  
शासन करना 890.17 ⇨  
शासन कर्ता  
शासक 890.5  
शासन कर्म  
शासन कर्म 890.3 ⇨  
शासन काल  
शासन काल 890.9 ⇨  
शासन केंद्र  
राजधानी 620.15

- शासन तंत्र  
शासन तंत्र 890.2 ⇨  
शासन बूचण  
शासन अवज्ञा 348.2  
शासनधर  
राजा: प्रतिनिधि शासक 882.29  
शासन पट  
दान पत्र 641.4  
राज्यादेश पत्र 878.4  
शासन पत्र  
राज्यादेश पत्र 878.4  
शासन परिवर्तन  
संसांतरण 902 1  
शासन पालिका  
कार्य पालिका 881.27  
शासन प्रतीक  
राज्य प्रतीक 408.10  
शासनबद्ध  
सुरासित 893.11  
शासनबद्धता  
सुरासन 893.1  
शासन विषयक  
शासकीय 890.20  
शासन व्यवस्था  
कार्य पालिका 881.27  
शासन संभालन  
शासन कर्म 890.3  
शासन सँभालना  
शासन करना 890.17  
शासन समिति  
शासन समिति 892.26 ⇨  
शासन सूत्र  
शासन सूत्र 890.4 ⇨  
शासनहर  
राजा: प्रतिनिधि शासक 882.29  
शासनहारी  
राजा: प्रतिनिधि शासक 882 29  
शासनहीन  
शासनहीन 894.7 ⇨  
शासनहीनता  
शासनहीनता 894.1 ⇨  
शासनाधीन  
शासनाधीन 890.19 ⇨  
शासनाधीन होना  
शासित होना 890.15  
शासनिक  
शासकीय 890.20  
शासनिक अव्यवस्था  
शासनहीनता 894.1  
शासनी  
धर्म उपदेशिका 742.23  
शासित  
नियंत्रित 899.24  
शासित 890.18 ⇨  
संयमित 808.16  
सुरासित 893.11  
शासितता  
सुरासन 893.1

शासित होना  
शासित होना 890.15 ⇨  
शासिता  
शासक 890.5  
शासी  
शासक 890.5  
शास्ता  
अध्यापक 323.8  
अनुशासक 893.16  
गुरु 323.1  
गीतम बुद्ध 793.1  
तीर्थंकर 792.1  
धर्म उपदेशक 742.22  
धर्म प्रवर्तक 742.27  
धर्म शिक्षक 742.21  
धर्माचार्य 790.2  
परामर्शक 332.14  
राजा 882.6  
विधायक 878.22  
विष्णु 768.1  
शासक 890.5  
शास्ति  
दंड 870.1  
राजा विस्म 408.12  
राज्यादेश 878.3  
शास्त्र  
धर्म ग्रंथ 738.1  
पुस्तक 448.1  
विज्ञान 307.1  
शास्त्र 318.2 ⇨  
सिद्धांत 343.9  
शास्त्र असंगत  
शास्त्र विरुद्ध 318.8  
शास्त्रकार  
शास्त्र रचिता 318.9  
शास्त्र कोविद  
शास्त्रज्ञ 318.10  
शास्त्रज्ञ  
धर्म ग्रंथज्ञ 738.2  
विशेषज्ञ 305.36  
शास्त्रज्ञ 318.10 ⇨  
शास्त्रज्ञता  
शास्त्रज्ञता 318.3 ⇨  
शास्त्र ज्ञान  
विद्या 318.1  
शास्त्र ज्ञानी  
शास्त्रज्ञ 318.10  
शास्त्र पुराण  
धर्म ग्रंथ 738.1  
शास्त्र प्रवक्ता  
व्याख्याता 427.32  
शास्त्र प्रसंग  
शास्त्रार्थ 324.6  
शास्त्र रचिता  
शास्त्र रचिता 318.9 ⇨  
शास्त्र वक्ता  
धर्म उपदेशक 742.22

शास्त्रविद  
शास्त्रज्ञ 318.10  
शास्त्र विधि  
धर्म विधि 747.3  
विधि संहिता 878.6  
शास्त्र विरुद्ध  
शास्त्र विरुद्ध 318.8 ⇨  
शास्त्र विशेष  
शास्त्र 318.2  
शास्त्र विहित  
शास्त्र संगत 318.7  
शास्त्र वेत्ता  
शास्त्रज्ञ 318.10  
शास्त्र शिल्पी  
सिद्धांतकार 343.17  
शास्त्र संगत  
शास्त्र संगत 318.7 ⇨  
शास्त्र सम्मत  
शास्त्रीय 318.6  
शास्त्रविद  
शास्त्रीय 318.6  
शास्त्राचरण  
नियम पालन 879.7  
शास्त्रादेश  
धर्म आदेश 742.7  
शास्त्रानुकूल  
शास्त्र संगत 318.7  
शास्त्रार्थ  
शास्त्रार्थ 324.6 ⇨  
शास्त्री  
ज्ञानी 305.30  
धर्म ग्रंथज्ञ 738.2  
धर्म ज्ञानी 742.20  
पूर्णविद्य 318.5  
विद्वान व्यक्ति 319.2  
विशेषज्ञ 305.36  
शास्त्रज्ञ 318.10  
सिद्धांतकार 343.17  
शास्त्रीय  
तकनीकी 514.15  
धर्म ग्रंथीय 738.5  
पारिभाषिक 317.15  
विज्ञान संगत 307.13  
विज्ञानीय 307.11  
शास्त्र संगत 318.7  
शास्त्रीय 318.6 ⇨  
शास्त्रीय कला  
शास्त्रीय कला 397.7 ⇨  
शास्त्रीयता  
शास्त्रज्ञता 318.3  
शास्त्रीय संगीत  
शास्त्रीय संगीत 457.8 ⇨  
शास्त्रीय संगीत रचना  
राग 457.13  
शास्त्रोक्त  
धर्म ग्रंथीय 738.5  
शास्त्र संगत 318.7

शास्त्रोपवेशक  
धर्म उपदेशक 742.22  
शाईशाह  
सम्राट 882.24  
शाईशाही  
घनाढ्योचित 626.17  
राज वैभवशाली 226.17  
राजा पद 882.8  
राज्यीय 881.32  
शाह  
इसलामी साधु 790.23  
शाह-  
उत्तम 313.13  
शाह  
उत्तमता. उपमान सूची 313.4  
शाह-  
प्रथम स्थानीय 707.11  
शाह  
राजा 882.6  
साहूकार 633.4  
सुफ़ी संत 790.10  
सेठ 626.8  
स्वामी 621.2  
शाह [बेगम]  
रज [रानी]: पक्कम (नक्क)सूची 882.10  
शाह आलू  
खुबानी 191.6  
शाहकार  
उत्कृष्ट कलाकृति 397.21  
शाहसुर्ध  
अपव्ययी 644.24  
शाहगाम  
अश्वगति सूची 1084.24  
शाहजहाँ  
सम्राट 882.24  
शाहजहानाबाद  
दिल्ली 28.42  
शाहज़ादा  
राजकुमार 882.20  
शाहज़ादी  
गजकुमारी 882.21  
शाहबाना  
मुख्य मनका 228.49  
शाहनशी  
सम्राट गवाक्ष 608.16  
शाहपर  
मुख्य पंख 151.5  
शाह बंदर  
मुख्य बंदरगाह 1069.10  
शाहबाला  
शाहबाला 801.14  
शाह बेगम  
राजा रानी 882.5  
शाहबैत  
श्रेष्ठ शेर 452.28  
शाह मुहरा  
सर्प मणि 96.20

शाहराह  
मुख्य सड़क 1063.34  
शाहवार  
प्रथम स्थानीय 707.11  
शाहाना  
उत्तम 313.13  
घनाढ्योचित 626.17  
राज वैभवशाली 226.15  
राजा योग्य 882.35  
राज्यीय 881.32  
वैभवशाली 226.15  
स्वच्छेचारितापूर्ण 809.8  
शाहानामिज़ाज  
उत्कृष्टता प्रेमी 400.20  
शाहानुशाहि  
सम्राट 882.24  
शाहिब  
प्रत्यक्ष साक्षी 878.18  
साक्षी 878.13  
शाही  
घनाढ्योचित 626.17  
राजतंत्रवाद 884.10  
राजतंत्रात्मक 881.39  
राज वैभवशाली 226.17  
राजा योग्य 882.35  
राजा विषयक 882.34  
राज्यीय 881.32  
राष्ट्रीयकृत 635.19  
शासकीय 890.20  
सत्ता 899.1  
स्वच्छेचारितापूर्ण 809.8  
शाही बाल  
राजसी गति 1084.3  
शाही झरोखा  
सम्राट गवाक्ष 608.16  
शाही तंबू  
राजसी तंबू 600.22  
शाहीन  
गिट्ट 126.26  
शाही फ़रमान  
राज्यादेश 878.3  
शिगरफ़  
सिंदूर 225.18  
शिगरफ़ी  
सिंदूरी लाल 289.63  
शिगाफ़ा  
शिगाफ़ा मछली 125.14  
शिगि  
पशु: आंत्र 152.3  
शिशाण  
लौह मल 214.6  
शिधित  
आघ्राणित 273.11  
शिज  
आभूषण ध्वनि 296.7  
शिजोन  
कंगन 228.5  
ध्वनन 294.2

## शिजा

शिजा  
धनुषः प्रत्यंघा 926.15  
शिक्षित  
अंकृत 296.27  
वाचित 461.105  
शिजिनी  
धुंयक 461.35  
धनुषः प्रत्यंघा 926.15  
शिव  
सेम 189.36  
शिबी  
सेम 189.36  
शिशुक  
सूँस 124.12  
शिशुपा  
अशोक 13.4  
शीराम 13.22  
शिकंजबीन  
शिकंजबीन 208.7 ⇌  
शिकंजा  
पंजा 150.23  
यंत्रणा 391.13  
शिकंजा 559.47 ⇌  
शिकंजा  
शिकंजा 559.47  
शिक  
अर्घाश 949.18  
तहसील 866.6  
शिकारदार  
तहसीलदार 866.7  
शिकन  
कपडा: शिकन 975.8  
चुन्नट 975.1  
चूकी 975.4  
झुरी 134.11  
तह 975.15  
-शिकन  
मंजक 539.15  
शिकन  
शिकन 975.7 ⇌  
शिकनदार  
चूकीदार 975.26  
शिकनदार 975.28 ⇌  
शिकन निकालना  
अयक करना 974.15  
इस्तिरा करना 220.39  
शिकन पढ़ना  
शिकन पढ़ना 975.20 ⇌  
शिकनी  
मंजन 539.1  
शिकमी  
बैंटाईदार 553.22  
शिकरम  
माल डिब्बा 1076.11  
रेलगाडी: डिब्बा 1076.4  
शिकवा  
शिकायत 843.12

शिकवा शिकायत  
शिकायत 843.12  
शिकरस  
उर्दू लिपि: शौली सूची 409.6  
उर्दू हस्तलेख शौली सूची 412.8  
पराजय 913.1  
शिकरस बंध  
खटका: छत्ता 1016.30  
शिकरसा  
कुलेख: उपमान सूची 412.13  
पराजित 913.5  
शिकरसाहाल  
अभावग्रस्त 627.17  
कंगाल 627.21  
दुर्दशाग्रस्त 627.22  
शिकारकाई  
शिकारकाई 220.26 ⇌  
शिकायत  
चुगली 843.10  
दुःखगाथा 391.4  
रोग 183.1  
शिकायत 843.12 ⇌  
शिकायत कर्ता  
शिकायत कर्ता 843.27 ⇌  
शिकायतगर  
शिकायत कर्ता 843.27  
शिकायती  
शिकायत कर्ता 843.27  
शिकार  
अखेट 252.1  
आखेट यात्रा 252.21  
आखेटित पशु 252.4  
शिकार करना  
आखेट करना 252.28  
शिकार खेलना  
आखेट करना 252.28  
शिकार गड्ढा  
आखेट गड्ढा 252.24  
शिकारगाह  
आखेट स्थल 252.22  
शिकार पशु  
आखेटित पशु 252.4  
शिकार मंघ  
आखेट मंघ 252.23  
शिकार मांस  
आखेट मांस 206.14  
शिकार यात्रा  
आखेट यात्रा 252.21  
शिकारा  
नीका सूची 1072.3  
शिकारा 1072.23 ⇌  
शिकारी  
आखेटक 252.2  
शिकारी जानवर  
आखेटक जीव 252.3  
शिक्या  
खरिया 673.19  
तराजू डोरी 962.19

शिकक  
अध्यापक 323.8  
गुरु 323.1  
शिकक (बै.)  
बोध प्रदाता 301.30  
शिकक विषय  
शिकक विषय 58.17 ⇌  
शिकक वर्ग  
अध्यापक वर्ग 323.10  
शिककीय प्रवचन  
शिककीय प्रवचन 322.6 ⇌  
शिकण  
शिकण 321.18 ⇌  
सन्धीकरण 733.2  
शिकण (बै.)  
बोध प्रदान 301.10  
शिकण करना  
शिकण करना 321.32 ⇌  
शिकीत  
दीक्षात 321.6  
विद्योत संस्कार 798.24  
शिक्षा  
उपदेश 430.9  
दंड 870.1  
वेदांग सूची 740.41  
शिक्षा 321.1 ⇌  
सीख 332.6  
शिक्षा (बै.)  
विद्या 318.1  
शिक्षा अभ्यास  
परिशीलन 321.26  
शिक्षा अर्जन  
शिक्षा अर्जन 321.22 ⇌  
शिक्षा अर्जन करना  
शिक्षा अर्जन करना 321.34 ⇌  
शिक्षा आरंभ  
शिक्षा आरंभ 321.2 ⇌  
शिक्षा आरंभ सूची  
शिक्षा आरंभ सूची 321.3 ⇌  
शिक्षा उपाधि  
शिक्षा उपाधि 322.26 ⇌  
शिक्षात्मक  
शैक्षिक 321.37  
शिक्षा देना  
शिक्षण करना 321.32  
शिक्षा परिषद  
अध्यापक वर्ग 323.10  
शिक्षा परीक्षा  
शिक्षा परीक्षा 322.13 ⇌  
शिक्षा पाठ  
शिक्षा पाठ 322.5 ⇌  
शिक्षा पाठ्यक्रम  
पाठ्यक्रम 322.1  
शिक्षाप्रद  
बोधप्रद 301.31  
शिक्षा प्रसार आंदोलन  
शिक्षा प्रसार आंदोलन 904.10 ⇌

शिक्षारंभ  
नूतनत्व 798.28  
विद्यारंभ संस्कार 798.23  
शिक्षा आरंभ 321.2  
शिक्षार्जन  
शिक्षा अर्जन 321.22  
शिक्षार्जन से प्राप्त  
शिक्षार्जित 321.49  
शिक्षार्जित  
शिक्षार्जित 321.49 ⇌  
शिक्षार्थी  
छात्र 323.26  
शिक्षालय  
शिक्षालय 321.9 ⇌  
शिक्षालय कक्षा  
शिक्षालय कक्षा 321.12 ⇌  
शिक्षालय कक्षा  
शिक्षालय कक्षा 321.13 ⇌  
शिक्षालय परिसर  
शिक्षालय परिसर 321.14 ⇌  
शिक्षालय वर्ष  
शिक्षालय वर्ष 322.9 ⇌  
शिक्षालय विभाग  
शिक्षालय विभाग 321.15 ⇌  
शिक्षालय स्तर  
अध्ययन स्तर 322.8  
शिक्षालय सूची  
शिक्षालय सूची 321.11 ⇌  
शिक्षालाभ  
शिक्षा अर्जन 321.22  
शिक्षा शुल्क  
शिक्षा शुल्क 665.5 ⇌  
शिक्षाहीनता  
असम्यता 734.1  
शिक्षिका  
अध्यापिका 323.9  
शिक्षित  
प्रशिक्षित 321.46  
शिक्षित 321.41 ⇌  
सम्य 733.13  
शिक्षित (बै.)  
विद्य 318.4  
शिक्षित करना  
शिक्षण करना 321.32  
शिक्षित सैनिक  
प्रशिक्षित सैनिक 934.2  
शिक्षु  
छात्र 323.26  
प्रशिक्षु 321.47  
शिक्षंड  
कलगी 140.5  
मोर: पूंछ 151.13  
लट 223.15  
शिक्षंडिका  
कलगी 140.5  
शिक्षा 137.10  
शिक्षंडिनी  
जूही 14.18



मादा मोर 126.69  
 शिखंडिनी (पूर्व नाम)  
 शिखंडी 771.90  
 शिखंडी  
 नर मुरगी 126.65  
 बाण 928.16  
 मोर 126.68  
 मोर: पूँछ 151.13  
 दिव्यु 788.1  
 शिखंडी 771.90 ⇌  
 शिखाधारी 137.23  
 शिख 767.1  
 शिखनख वर्णन  
 नखशिख वर्णन 449.7  
 शिखर  
 उच्चता: उपमान सूची 982.13  
 कलश 745.43  
 गोपुर 808.8  
 छोर 1000.3  
 नोक 270.8  
 पर्यंत शिखर 16.11  
 भवन शिखर 811.1  
 मस्तूल शिखर 1073.12  
 वृक्ष शिखर 114.14  
 शिखर 982.6 ⇌  
 शिखर घाटी  
 विपरीतता: उपमान सूची 310.13  
 शिखर दिशा  
 उच्च दिशा 982.4  
 शिखरन  
 श्रीखंड 203.42  
 शिखर पर  
 उच्चत: 982.12  
 शिखर बाहिनी  
 दुर्गा 776.7  
 शिखरस्थ  
 उच्चतम 982.8  
 शिखर स्थान  
 सम्मान स्थान 854.7  
 शिखरिणी  
 महान स्त्री 839.4  
 शिखरी  
 शिखाधारी 137.23  
 श्रीखंड 203.42  
 शिखरीय  
 उच्चतम 982.8  
 शिखा  
 अग्नि ज्वाला 106.8  
 उच्चता: उपमान सूची 982.13  
 कलगी 140.5  
 छोर 1000.3  
 जटा 112.17  
 टोप टोपी: कलगी 584.19  
 तुलसी 13.9  
 दीपक ज्वाला 285.18  
 प्रकाश किरण 288.1  
 शिखर 982.6  
 शिखा 137.10 ⇌

शिखा कंब  
 गाजर 189.14  
 शिखाधारी  
 शिखाधारी 137.23 ⇌  
 शिखा पाश  
 देणी 223.17  
 शिखा मणि  
 चूडामणि 228.10  
 शिखा मूल  
 शलतान 189.35  
 शिखाबल  
 शिखाधारी 137.23  
 शिखावान  
 ज्वालायुक्त 106.24  
 धूमकेतु 3.9  
 शिखाधारी 137.23  
 शिखा वृक्ष  
 दीपाधार 285.20  
 शिखा वृद्धि  
 धारवृद्धि व्याज 633.11  
 शिखा सूत्र  
 पुरुष: शिखा 137.11  
 यज्ञोपवीत 796.22  
 शिखिनी  
 मादा मोर 126.69  
 मुरगी 126.64  
 शिखी  
 अग्नि 106.1  
 दीपक 285.13  
 नर मुरगी 126.65  
 बाण 926.16  
 बैल 127.13  
 मोर 126.68  
 वृक्ष 111.18  
 शिखाधारी 137.23  
 साधु 790.16  
 शिखी कण  
 चिंगारी 106.11  
 शिखी ध्वज  
 धूम्र 106.19  
 शिखी पुच्छ  
 मोर: पूँछ 151.13  
 शिखीभू  
 स्कंद 773.50  
 शिखी शेखर  
 मोर: कलगी 140.7  
 शिखीश्वर  
 स्कंद 773.50  
 शिखीश्वर भास्त्र  
 कार्तिक 43.14  
 शिगाफ़  
 क्लम जीम चीरा 416.5  
 चीरा 174.4  
 विदर 544.4  
 शिगाल  
 गीदड़ 127.75  
 शिगुज  
 सहजन 13.24

शिखण्डिका  
 करघनी 228.7  
 शिखण्डिनिया (अँ)  
 मनोभाजन 353.12  
 शिताबकार  
 जल्दबाज़ 496.12  
 शितिकुम्भ  
 कनेर 14.3  
 शिथिल  
 अप्रबल 488.14  
 अप्रयत्नशील 490.9  
 आलसी 490.14  
 ढीला [ढीली] 1015.12  
 थका [थकी] 492.15  
 नम्र व्यवहारी 830.8  
 शक्तिहीन 488.10  
 शिथिल 1045.13 ⇌  
 स्फूर्तिहीन 492.14  
 शिथिलकाय  
 शिथिलकाय 159.15 ⇌  
 शिथिलकायता  
 शिथिलकायता 159.5 ⇌  
 शिथिल गति  
 शिथिल गति 1045.7 ⇌  
 शिथिल गति से  
 शिथिल गति से 1045.17 ⇌  
 शिथिल गमन करना  
 शिथिल गमन करना 1045.9 ⇌  
 शिथिलगामी  
 शिथिलगामी 1045.14 ⇌  
 शिथिल गामी  
 शिथिलगामी 1045.14  
 शिथिलत:  
 शिथिलत 1045.16 ⇌  
 शिथिलता  
 अबलिष्ठता 159.3  
 आलस्य 490.5  
 ढील 1015.5  
 तंद्रा 266.8  
 शिथिलता 1045.6 ⇌  
 स्फूर्तिहीनता 492.3  
 शिथिलतापूर्वक  
 शिथिलत: 1045.16  
 शिथिलन  
 ग्रंथि शिथिलन 574.2  
 शिथिलबल  
 शक्तिनष्ट 488.12  
 शिथिल होना  
 देह शिथिल होना 492.12  
 शिथिलान  
 काया शिथिल होना 159.8  
 थकना 492.10  
 शिथिलानुगामी  
 दृढमतहीन 344.12  
 शिथिलित  
 ग्रंथि शिथिलत 574.11  
 शिथिलीकरण  
 विमंदन 1045.5

वेग रोधन 1043.8  
 शिषत  
 तीव्र अनुभूति 263.2  
 प्रबलता 487.6  
 शिनाफ़  
 परीक्षा 322.11  
 शिप (अँ)  
 समुद्र पोत 1072.40  
 शिपिंग (अँ)  
 नौसेवा 1068.7  
 शिपिंग लाइन (अँ)  
 नौसेवा कंपनी 1068.8  
 शिपिषिट  
 जन्मत: ख़तना कृत 798.48  
 शिप्रा  
 भारत उपमहाद्वीप: नदी सूची 20.7  
 लोह शिर कवच 921.6  
 शिफ  
 शेरोंदार मूल 112.12  
 शिका  
 कलगी 140.5  
 मूल 112.10  
 शेरोंदार मूल 112.12  
 लता 111.17  
 शिखा 137.10  
 शिकाकंड  
 कमल मूल 112.14  
 शिकारुह  
 बरगद 13.16  
 शिकोन  
 शिकोन 580.43 ⇌  
 शिकोन (अँ)  
 शिकोन 580.43  
 शिकट (अँ)  
 पाली 70.10  
 शिमला  
 हिमाचल प्रदेश राजधानी 26.73  
 शिमला पहाडिनी  
 भारत उपमहाद्वीप: पर्यंत सूची 17.1  
 शिमला मिर्च  
 शाक मिर्च 278.7  
 साग सब्जी सूची 189.4  
 शिमशिम  
 तिल 196.17  
 सरसों 196.20  
 शिया  
 शीया मत 736.8  
 शीया मतावलंबी 736.9  
 शिर  
 सिर 140.1  
 शिरकत  
 अंशाधिकार 623.9  
 अनेकेश्वर वाद 760.17  
 सह अपराधिता 861.4  
 सहकर्म 700.3  
 सहयोग 700.1  
 साझेदारी 621.7

## शिरकती

शिरकती  
सहकारी (संपत्ति) 621.28  
साझे का 621.27

शिर कपाली  
कपालधारी संन्यासी 790.13

शिर कवच  
शिर कवच 921.5 ⇨

शिरच्छेद  
सिर काट कर मृत्यु दंड 871.7

शिरसिरुह  
केस 137.1

शिरस्त्राण  
शिर कवच 921.5  
शिरस्त्राण 584.17 ⇨

शिरस्त्राण (वे. शिर कवच)  
शिरस्त्राण 584.17

शिरस्थ  
उच्चतम 982.8  
प्रथम स्थानीय 707.11

शिरस्थ  
उत्तम 313 13

शिरा  
शिरा 131.12 ⇨

शिराली  
हार सिंगार 13.27

शिरा बंध  
रुधिर मोचन 174 6

शिरा  
कॉस घास 11 7

शिरिय  
सिर विषयक 140 22

शिरिष  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
शिरिष 13.21 ⇨

शिरिष  
सिर विषयक 140 22

शिरिष  
सिर विषयक 140 22

शिरिष  
श्रीवा 145 1

शिरिष  
सिरहाना 594.20

शिरिष  
स्वीकार्य 337 17

शिरिष  
खमध्य 2 5

शिरिष  
उच्च भाग 982 5

शिरिष  
उत्तम 313 13

शिरिष  
महापुरुष 839.3

शिरिष  
उच्चतम 982 8

शिरिष  
उत्तम 313.13  
उत्तमता. उपमान सूची 313.4

शिरिष  
चूकामणि 228 10  
प्रथम स्थानीय 707 11

शिरिष  
प्रधान 852 10  
प्रधान व्यक्ति 852.4  
महा अध्यक्ष 652.16

सर्वोच्च सलाधारी 899.5

शिरिष  
शिव 767.1

शिरिष  
चूकामणि 228.10

शिरिष  
केस 137.1

शिरिष  
उच्चता: उपमान सूची 982.13

शिरिष  
हिंदी वर्ण. शिरिषेखा 988.10

शिरिष  
उच्चतम 982.8

शिरिष  
सिर परिधान 584 1

शिरिष  
कपाल 133.6

शिरिष  
उच्च धान्य 548.27  
उठल से झका अनाज़ 187.4

शिरिष  
उच्च कर्म 548.26

शिरिष  
चट्टान 99.14  
चौखट: अधोकाष्ठ 609.3

शिरिष  
तिब्बत 27 7

शिरिष  
नीर्ये 607.12

शिरिष  
पाषाण 99.1  
पाषाण पटल 990.19

शिरिष  
भूटान 27 13  
सिल 560 18  
सीमा धिष्टन 1001 15

शिरिष  
शिला कुसुम  
शिलाजीत 84 12

शिरिष  
शिला क्षार  
धूना 290.22

शिरिष  
शिला चित्र  
गुहा चित्र 404.6

शिरिष  
शिलाज  
खनिज तेल 110 16  
शिलाजीत 84 12

शिरिष  
शिलाजनु  
शिलाजीत 84 12

शिरिष  
शिलाजीत  
शिलाजीत 84.12 ⇨

शिरिष  
शिलाटक  
अटारी 611 10  
घेरा 604.7

शिरिष  
परकोटा 604 11  
परिसीमा 1001.8

शिरिष  
शिलात्मज  
लोहा 93.7

शिरिष  
शिलादडु  
शिलाजीत 84.12

शिरिष  
शिला धातु  
गेरू 290.21

शिरिष  
शिला निर्यास  
शिला निर्यास 84.11 ⇨

शिलान्यास  
नीर्ये रखाई 599.23

शिलान्यास  
संस्थापना 693.1

शिलान्यास  
शिलान्यास करना  
संस्थापित करना 693.5

शिला पट  
चट्टान 99.14  
चतुर्भुज पाषाण पटल 990.20

शिलापट  
नीर्ये: पत्थर 607.13

शिला पटी  
चट्टान 99 14  
स्लीपर 597 12

शिलाभव  
शिलाजीत 84.12

शिलाभूत  
पाषाणीभूत 99.16

शिला लेख  
शिला लेख 77.10 ⇨

शिला वेरम  
पर्यंत गुहा 15.10

शिला हरि  
शालग्राम बटी 938.47

शिलाहारी  
उंचाहारी 204.11

शिलिकारम  
सलेट पत्थर 99.11

शिली  
ओला 54.15

शिली  
कंचुआ 122 7

शिलीभूत  
पाषाणीभूत 99.16

शिलीमुख  
बाण 926.16

शिलीय  
पाषाणीय 99 15

शिलेय  
चट्टानी 99.17  
शिलाजीत 84 12

शिलोद्भव  
शिलाजीत 84 12

शिलींग  
मेघालय: राजधानी 28 63

शिलीका  
गरुड 777.15

शिल्य  
कला कर्म 397.15  
कला शैली 397 14

शिल्य  
चीड़ 13 7  
रचना विन्यास 527.8

शिल्य  
हस्त शिल्प 557.9

शिल्यक  
शिल्पकार 557.10

शिल्यकार  
शिल्पकार 557.10 ⇨

शिल्यकारी  
हस्त शिल्प 557.9

शिल्पजीवी  
शिल्पकार 557.10

शिल्पज्ञ  
विश्वकर्मा 773.44

शिल्पन  
रचना कर्म 527.1

शिल्पन करना  
शिल्पित करना 557.13

शिल्प यंत्र  
उपकरण 558 7  
यंत्र 558.10

शिल्प लिपि  
शिला लेख 77.10

शिल्प विद्यालय  
शिक्षालय सूची 321.11

शिल्पशाला  
यंत्रालय 558.12

शिल्प शिक्षा  
प्रशिक्षा 321.19

शिल्प श्रेणी  
कर्म संघ 692.16

शिल्प संघ  
कर्म संघ 692.16

शिल्पालय  
यंत्रालय 558 12

शिल्पिक  
विश्वकर्मा 773.44

शिल्पिक  
शिल्पकार 557.10

शिल्पित करना  
शिल्पित करना 557.13 ⇨

शिल्पी  
कुशल श्रमिक 651.20

शिल्पी  
प्रवीण 303.22  
मय 783.20

शिल्पी  
विश्वकर्मा 773.44  
विष्णु 768.1

शिल्पीकार  
शिल्पकार 557.10

शिल्पिक  
कल्याणकारी 710.21

शिल्पिकरी  
दुर्गा 776.7  
पार्वती 776.9

शिल्पिका  
गुल दाऊदी 14.10

शिल्पिक  
अद्वैत ब्रह्म 764.27  
ईश्वर 764.1

शिल्पिक  
कल्याण 710.2  
कल्याणकारी 710.21

शिल्पिक  
कौआ 126.22  
गणेश: पिता 773.23

शिल्पिक  
चंदन 274.20  
जल 88.1

शिल्पिक  
नीलकंठ 126.46

शिल्पिक  
पंचदेव सूची 772.33  
प्रलयकर 530.8

शिल्पिक  
वेद 740.22  
शिव 767.1 ⇨

शिवलिंग 746.14  
 शिव अनुचर  
 शिव गण 767.31  
 शिवः अशांत रूप  
 शैशव 767.29  
 शिवः अशांत रूप 767.23 ⇨  
 शिवः अस्त्र  
 शिवः अस्त्र 767.10 ⇨  
 शिवः आठ रूप  
 शिवः आठ रूप 767.25 ⇨  
 शिवः आठ रूप सूची  
 शिवः आठ रूप सूची 767.26 ⇨  
 शिवः आवास  
 शिवः आवास 767.18 ⇨  
 शिवः उग्र नृत्य  
 ताडव 462.8  
 शिव और ईश्वर एक हैं  
 अद्वैतवाद 780.8  
 शिवक  
 शिव मूर्ति 746.9  
 शिवकर  
 कल्याणकारी 710.21  
 शिव कांता  
 पार्वती 776.9  
 शिवकीर्तन  
 विष्णु 768.1  
 शैव संप्रदायः सदस्य 737.54  
 शिव गण  
 शिव गण 767.31 ⇨  
 शिवगत  
 मोक्षगत 257.7  
 शिव चतुर्वर्षी  
 शिवरात्रि 57.27  
 शिवः चार मूर्ति सूची  
 शिव चार मूर्ति सूची 746.10 ⇨  
 शिवः जटा  
 शिव जटा 767.7 ⇨  
 शिव जटा  
 शिव जटा 137.8 ⇨  
 शिव जन्म दिवस  
 शिवरात्रि 57.27  
 शिव जी की भारता  
 विश्व सामग्रीः उपमान सूची 669.5  
 शिवज्ञ  
 शकुनज्ञ 262.17  
 शैव संप्रदायः सदस्य 737.54  
 शिव ज्ञान  
 शकुन विचार 262.4  
 शिवः डमरू  
 शिवः डमरू 767.16 ⇨  
 शिवरता  
 अनश्वरता 37.3  
 मोक्ष 257.1  
 शिवः तीसरा नेत्र  
 शिवः तीसरा नेत्र 767.8 ⇨  
 शिवः त्रिशूल  
 शिवः त्रिशूल 767.11 ⇨

शिवदाह  
 देवदारु 13.10  
 शिवदूती  
 दुर्गा 776.7  
 शिवः धनुष  
 शिवः धनुष 767.12 ⇨  
 शिवः धनुष 926.12 ⇨  
 शिवः धनुष (दे.)  
 शिवः धनुष 767.12  
 शिव नंदन  
 गणेश 773.22  
 शिव नंदी  
 नंदी 767.14  
 शिव नयन  
 तीसरा नेत्र 141.2  
 शिवः नृत्य  
 शिवः नृत्यः 767.15 ⇨  
 शिवनेत्र  
 तीसरा नेत्र 141.2  
 शिवः तीसरा नेत्र 767.8  
 शिवः पत्नी  
 अपर्णा 776.10  
 पार्वती 776.9  
 शिवः पत्नी 767.19 ⇨  
 सती 776.16  
 शिवः पत्नी सूची  
 शिवः पत्नी सूची 767.20 ⇨  
 शिव पार्वती  
 अर्चनारीश्वर 767.27  
 शिव पार्वती 767.3 ⇨  
 शिव पार्वती विवाह  
 शिवरात्रि 57.27  
 शिवः पुत्र  
 शिवः पुत्र 767.21 ⇨  
 शिवः पुत्र सूची  
 शिवः पुत्र सूची 767.22 ⇨  
 शिव पुराण  
 पुराण सूची 740.17  
 शिवप्रिय  
 धनुषा 212.7  
 स्फटिक 283.20  
 शिवप्रिया  
 भोग 210.1  
 शिव भक्त  
 शैव संप्रदायः सदस्य 737.54  
 शिव भागवत  
 शैव संप्रदायः सदस्य 737.54  
 शिव मंत्र  
 मंत्र सूची 741.4  
 शिव मंदिर  
 शिव मंदिर 745.36 ⇨  
 शिव मित्र  
 कुबेर 779.4  
 शिवः मुख  
 शिवः मुख 767.5 ⇨  
 शिवः मुख सूची  
 शिवः मुख सूची 767.6 ⇨

शिव मूर्ति  
 शिव मूर्ति 746.9 ⇨  
 शिवबंध  
 शिवबंध 138.5 ⇨  
 शिव रत्नज  
 शैशव गण 767.32  
 शिव रस  
 मोंक 208.17  
 शिवरात्रि  
 शिवरात्रि 57.27 ⇨  
 शिवलिंग  
 नर्मदेश्वर बटी 938.46  
 शिवलिंग 746.14 ⇨  
 शिवलिंगः अरघा  
 शिवलिंगः अरघा 746.15 ⇨  
 शिवलिंग सूची  
 शिवलिंग सूची 746.17 ⇨  
 शिववंती  
 गुल दाऊदी 14.10  
 शिव बबन  
 शिवः मुख 767.5  
 शिव बल्लभ  
 आम फूल 13.5  
 शिव बल्लभा  
 गुल दाऊदी 14.10  
 शिव बाहन  
 नंदी 767.14  
 शिवः बाहन  
 शिवः बाहन 767.13 ⇨  
 शिव विषयक  
 शिव विषयक 767.2 ⇨  
 शिवः बीणा  
 शिवः बीणा 767.17 ⇨  
 शिव वीर्य  
 पारा 94.9  
 शिवः वीर्य  
 शिवः वीर्य 767.4 ⇨  
 शिव वीर्यज  
 शिवः पुत्र 767.21  
 शिव शंकर  
 शिव 767.1  
 शिव शंभु  
 शिव 767.1  
 शिव शक्ति  
 शिव त्रिशूल 767.11  
 शिवः शांत रूप  
 शिवः शांत रूप 767.24 ⇨  
 शिव शोकर  
 चंद्रमा 8.2  
 शिवः संहारी रूप  
 रुद्र 767.34  
 शिवः सर्प  
 शिवः सर्प 767.9 ⇨  
 शिव सायुज्य  
 मोक्ष 257.1  
 शिव सुवरी  
 दुर्गा 776.7

शिव सूत्र  
 शिव सूत्र 740.52 ⇨  
 शिवहस्त  
 पनक्तिरी 126.49  
 शिवा  
 कृत्तिका सूची 774.31  
 गुग्गुल 274.18  
 गौरीचन 274.19  
 दुर्गा 776.7  
 पार्वती 776.9  
 सुहागन 803.13  
 शिवानी  
 दुर्गा 776.7  
 पार्वती 776.9  
 शिवः पत्नी 767.19  
 सती 776.16  
 शिवा बलि  
 अजामेय 754.11  
 शिवारि  
 अहिर्नन 785.3  
 शिवालय  
 शिव मंदिर 745.36  
 स्नानान 254.9  
 शिवाला  
 शिव मंदिर 745.36  
 शिवालिक श्रेणी  
 भात उपमहादीपः पर्वत सूची 17.1  
 शिवावास  
 कैलास शिखर 17.2  
 शिवास्त्रय  
 बरगद 13.16  
 शिवि  
 दैत्य सूची 783.19  
 हिंसक 251.31  
 शिविका  
 पालकी 1071.24  
 शिविका बाहक  
 पालकी बाहक 1082.21  
 शिविर  
 अयिवेशन 694.14  
 तंबू 600.19  
 सेना छावनी 933.7  
 सैनिक शिविर 933.11  
 शिवी रथ  
 पालकी 1071.24  
 शिवेष्ट  
 बिल्व 190.27  
 शिवेष्टा  
 दूध घास 11.10  
 शिविका  
 प्रशिक्षा 321.19  
 शिविर  
 पतझड़ काल 52.2  
 शिशिर (माघ काल्पुन)  
 छः ऋतु सूची 51.15  
 शिशिरकर  
 चंद्रमा 8.2

## शिशिर काल

शिशिर काल  
शीत काल 53.1  
शिशिर कालीन  
शीत कालीन 53.14  
शिशिरध्व  
अग्नि 106.1  
शिशिरता  
शीतलता 105.1  
शिशिरांत  
वसंत काल 52.1  
शिशिरांशु  
चंद्रमा 8.2  
शिशिरा  
गौडर घास मूल 112.15  
शिशिरवीय  
शीत कालीन 53.14  
शिशु  
नवजात शिशु 230.4  
शिशु 230.3 ⇨  
स्कंद 773.50  
शिशु (शब्दार्थ)  
मूसा 791.23  
शिशु अवस्था  
शिशु अवस्था 230.1 ⇨  
शिशु कक्ष  
शिशु कक्ष 614.22 ⇨  
शिशु कालीन  
शिशु कालीन 230.31 ⇨  
शिशु गदा  
शिशु गदा 593.40 ⇨  
शिशुचर्या  
पालन पोषण 720.1  
शिशु चिकित्सक  
शिशु चिकित्सक 173.11 ⇨  
शिशु चिकित्सा  
शिशु चिकित्सा 173.10 ⇨  
शिशु जन  
शिशु जन 230.2 ⇨  
शिशु जन्म  
प्रसव 244.1  
शिशुता  
शिशु अवस्था 230.1  
शिशु दोला  
शिशु पालना 1034.18  
शिशुधन  
बालधन 823.5  
शिशु: नए दंत  
दंतुरिया 144.3  
शिशु परिधान  
शिशु परिधान 583.12 ⇨  
शिशुपाल  
शिशुपाल 771.91 ⇨  
शिशु पालन  
पालन पोषण 720.1  
शिशु पालना  
शिशु पालना 1034.18 ⇨  
शिशुपाल निष्पन्न  
कृष्ण 771.1

शिशु पालिका  
देवसेना 774.47  
शिशु प्रेम  
वात्सल्य 721.1  
शिशु प्रेमी  
वात्सल्यपूर्ण 721.12  
शिशुमार  
कृष्ण 771.1  
सुंस 124.12  
शिशुमार चक्र  
सौर मंडल 7.1  
शिशु यान  
बच्चा गाड़ी 1071.26  
शिशु विशेषज्ञ  
शिशु चिकित्सक 173.11  
शिशुन  
पुरुष जननेंद्रिय 152.10  
मूत्रेंद्रिय 152.8  
शिष्ट  
अवशिष्टांशु 939.17  
आज्ञापित 347.14  
उच्च कुलीन 728.15  
क्रोधहीन 372.13  
धैर्यशील 394.15  
मर्यादा पालक 808.15  
विनम्र 733.19  
शांत 372.9  
शिक्षित 321.41  
शिष्ट 733.18 ⇨  
संसद योग्य 889.24  
सच्चरित्र 810.5  
सदस्य 692.30  
सभ्य 733.13  
शिष्टतः  
शिष्टतः 733.22 ⇨  
शिष्टता  
शिष्टता 733.7 ⇨  
शिष्टताहीनता  
असभ्यता 734.1  
शिष्ट परिषद  
विधान परिषद 889.5  
शिष्ट भाषा  
शिष्ट भाषा 421.24 ⇨  
शिष्ट मंडल  
प्रतिनिधि मंडल 888.28  
शिष्ट व्यवहार शैली  
शिष्टता 733.7  
शिष्ट सभा  
विधान परिषद 889.5  
शिष्टाचार  
औपचारिकता 184.3  
कार्य विधि 514.1  
चरित्र 810.1  
शिष्टता 733.7  
शिष्टाचारज्ञ  
शिष्ट 733.18  
शिष्टाचारपूर्वक  
शिष्टतः 733.22

शिष्टाचार संस्थापक  
स्वार्थभूय मनु 788.6  
शिष्टाचारहीन  
असभ्य 734.14  
शिष्टाचारहीनता  
असभ्यता: 734.24  
शिष्टाचारहीनता  
असभ्यता 734.1  
शिष्टाचारी  
मिलनसार 696.24  
शिष्ट 733.18  
संयमी 808.17  
सच्चरित्र 810.5  
सभ्य 733.13  
शिष्टि  
आज्ञा 347.1  
संघम 808.8  
शिष्य  
अनुगामी 345.7  
धर्म दीक्षित 742.25  
शिष्य 323.24 ⇨  
शिष्य (वे.)  
छात्र 323.26  
शिष्यता  
शिष्य भाव 323.25  
शिष्य परंपरा  
गुरु शिष्य परंपरा 323.7  
शिष्य भाव  
शिष्य भाव 323.25 ⇨  
शिस्त  
अंगुस्ताना 562.20  
शिस्तक  
शिलाजीत 84.12  
शीर्षिक  
शाकरक्षोरा 126.71  
शीआ  
शीया मत 736.8  
शीया मतावलंबी 736.9  
शीआ निकाह  
शीआ निकाह 799.4 ⇨  
शीकर  
क्षीण वर्षा 54.9  
, गंधा बिरोजा 1012.10  
तीव्र वर्षा 54.11  
फुहार 1032.9  
शीकाकाई  
शिकाकाई 220.26  
शीघ्र  
निकट भविष्य मे 36.35  
शीघ्रकारी 496.9  
शीघ्रत 496.13  
शीघ्र आने वाला  
आसन्न 67.10  
शीघ्रकर  
शीघ्रकारी 496.9  
शीघ्र करणीय  
शीघ्र करणीय 496.10 ⇨

शीघ्र करणीयता  
शीघ्र करणीयता 496.2 ⇨  
शीघ्रकारी  
शीघ्रकारी 496.9 ⇨  
शीघ्रग  
द्वुतगामी [द्वुतगामिनी] 1044.7  
वायु 85.1  
शीघ्रकारी 496.9  
शीघ्र गमन  
द्वुत गमन 1044.3  
द्वुत चलन 484.11  
शीघ्रगामी  
द्वुतगामी [द्वुतगामिनी] 1044.7  
शीघ्र चित्र  
शीघ्र चित्र 405.4 ⇨  
शीघ्रतः  
शीघ्रतः 496.13 ⇨  
स्कृतिपूर्वक 491.18  
शीघ्रता  
द्वुतता 1044.1  
शीघ्रता 496.1 ⇨  
शीघ्रता करना  
शीघ्रता करना 496.6 ⇨  
शीघ्रतापूर्वक  
शीघ्रतः 496.13 .  
शीघ्रधी  
तत्कालधी 301.23  
शीघ्र निमीलन  
नेत्र स्फुरण 1039.8  
शीघ्र प्रभावितता  
प्रभावशीलता 511.3  
शीघ्र यान  
द्वुत चलन 484.11  
शीघ्रलिपि  
आशुलेख 412.14  
शीघ्रलेख  
आशुलेख 412.14  
शीघ्रलेखक  
आशुलेखक 412.15  
शीघ्र विक्रय  
सस्ती बिक्री 661.7  
शीघ्र वैधी  
लक्ष्यानुगामी 931.22  
शीघ्र ही  
निकट भविष्य में 36.35  
शीट (अं)  
काताज़ शीट 415.10  
पूक शीट 413.26  
शीटबूल (अं)  
अनुसूची 993.9  
कार्य सूची 993.3  
शीत  
अनुष्ण 104.19  
जुकाम 163.16  
तुषार 90.8  
शीत काल 53.1  
शीत कालीन 53.14  
शीतल 105.19

- शीत कंपन**  
ठिठुरन 105.4
- शीतक**  
प्रीजर 671 11
- शीत काल**  
शीत काल 53.1 ⇨
- शीत काल वर्षा**  
शीत काल वर्षा 54 12 ⇨
- शीत काल होना**  
शीत काल होना 53 11 ⇨
- शीत कालीन**  
शीत कालीन 53 14 ⇨
- शीत जलवायु**  
शीतल जलवायु 1.2
- शीतला**  
शीतलता 105 1
- शीतन गृह**  
कोल्ड स्टोरेज 670 19
- शीत पकना**  
शीत काल होना 53 11
- शीतपुष्प**  
शिरष 13 21
- शीतल**  
अनातुर 497 5  
अनुष्ण 104 19  
आवेशहीन 372 12  
कमल 14 4  
गॉडर घास मूल 112 15  
घद्रमा 8 2  
घषा 14 15  
ठडाठार 197 42  
प्रशमित 372.10  
विनम्र 733 19  
शिलाजीत 84 12  
शीत कालीन 53 14  
शीतल 105 19 ⇨  
शीतलित 105 21
- शीतलक**  
शीतलक 105.22 ⇨  
श्वेत कमल 14 7
- शीतल कक्ष**  
शीतल कक्ष 614 7 ⇨
- शीतलकरण**  
शीतलन 105.2
- शीतल करना**  
शीतल करना 105.16 ⇨
- शीतल गोदाम**  
कोल्ड स्टोरेज 670 19
- शीतल चीनी**  
शीतल चीनी 281.31 ⇨
- शीतल जलवायु**  
शीतल जलवायु 51.2 ⇨
- शीतलता**  
आवेशहीनता 372 3  
शीतलता 105.1 ⇨
- शीतलन**  
शीतलन 105.2 ⇨
- शीतल नाथ**  
तीर्थकर सूची 792 2
- शीतल पाटी से कर पकना**  
रूठना 374 11
- शीतल पेय**  
शीतल पेय 208 3 ⇨
- शीतल मंद समीर**  
बयार 85 14
- शीतला**  
चेघक 163 9  
शीतला 774.91 ⇨
- शीतला देवी**  
शीतला 774 91
- शीतला माता**  
शीतला 774 91
- शीतलित**  
शीतलित 105 21 ⇨
- शीतलित्र**  
शीतलक 105 22
- शीतलीकृत**  
ठडाठार 197 42
- शीतसाङ (चीनी)**  
तिब्बत 21 1
- शीतांक**  
परम शीतांक 103 17
- शीतांगु**  
चंद्रमा 8 2
- शीताकुल**  
ठिठुरता [ठिठुरती] 105 24
- शीतागार**  
कोल्ड स्टोरेज 670 19
- शीताघात**  
हिमाघात 264 10
- शीतार्त**  
ठिठुरता [ठिठुरती] 105 24
- शीतार्द्र**  
ठिठुरता [ठिठुरती] 105 24
- शीतिका**  
ठिठुरन 105.4
- शीतित्र (म्र)**  
एयरकूलर 105 6
- शीतिमा**  
ठिठुरन 105 4  
शीतलता 105 1
- शीतोद्गम**  
जल 88 1
- शीत्कार**  
सिसकी 386 10
- शीत्य**  
जुता खेत 55 1 12
- शीन**  
प्रगाढ़ 81 14
- शीप फ़ार्मिंग (अँ)**  
भेड़ बकरी पालन 555 1
- शीया**  
शीया मतावलबी 736 9
- शीया निकाह**  
शीआ निकाह 799 4
- शीया मत**  
शीया मत 736 8 ⇨
- शीया मतावलबी**  
शीया मतावलबी 736 9 ⇨
- शीर**  
खीर 203 4
- शीरमाल**  
शीरमाल 202 20 ⇨
- शीरी**  
गाढ़: रस 84 4  
शीरा 280.10
- शीरा**  
गाढ़ा रस 84 4  
चासानी 280 5  
शीरा 280 10 ⇨
- शीराज्ञा**  
व्यवस्था 893 5  
शीराज्ञा 418 9 ⇨
- शीराज्ञाबंद**  
जिन्दबद्ध 418 14
- शीराज्ञा बिखरना**  
अव्यवस्थित होना 894 6
- शीरींजवान**  
मिष्टभाषी 431 8
- शीरीन**  
मीठा [मीठी] 280 30
- शीरीनी**  
मिष्टान्न 203 1
- शीरो शाकर**  
घनिष्ठ मित्र 104 14
- शीर्ण**  
नष्ट 531 7
- शीर्ष**  
उच्चतम 982 8  
उच्चता उपमान सूची 982 13  
छोर 1000 3  
लेखा शीर्षक 632 4  
सिर 140 1  
सिर विषयक 140 22
- शीर्षक**  
उपमान सूची 982 13  
शीर्षक 447.17 ⇨  
समाचार शीर्षक 447 18
- शीर्षक: अधोरेखा**  
शीर्षक अधोरेखा 968 9 ⇨
- शीर्ष काष्ठ**  
चीखट: शीर्ष काष्ठ 609.2
- शीर्षण्य**  
उच्च भाग 982 5
- शीर्ष दिशा**  
उच्च दिशा 982 4
- शीर्ष पट**  
पगड़ी 584 13
- शीर्ष भाग**  
उच्च भाग 982 5
- शीर्षयुक्त**  
सिरयुक्त 140.23
- शीर्ष रंध**  
दृष्टमध्य 138 4
- शीर्ष रेखा**  
हिदी वर्ण शिरोरेखा 968 10
- शीर्षस्थ**  
अनुपम 312 17  
उच्चतम 982 8  
उत्तम 313 12  
प्रथम स्थानीय 707 11
- शीर्षस्थ समिति**  
सर्वोच्च समिति 692 27
- शीर्ष स्थान**  
प्रथम स्थान 707 4
- शीर्ष स्थानीय**  
उत्तम 313 13
- शीर्षहीन**  
सिरहीन 140 24
- शीर्षाकाश**  
खमध्य 2 5
- शीर्षीय**  
खमध्यीय 2 10
- शील**  
अनुपेक्षा 184 2  
आचरण 808 1  
धरित्र 810 1  
तटस्थता 887 3  
निष्ठा 826 1
- शील**  
प्रवृत्तिशील 502 9
- शील**  
सच्चरित्र 810 5  
सज्जनता 817 1  
सम्भीकरण 733 1  
साधना 303 7  
स्वभाव 836 4
- शील [शीला]**  
शिष्ट 733 18  
सज्जन 817 7  
सभ्य 733 13
- शीलधारी**  
पुण्य कर्ता 814 5
- शीलन**  
अनुशीलन 321 25  
अभ्यास 303 5  
करण 505 1  
ध्यानन 331 2  
परिशीलन 321 26
- शीलवंत**  
सच्चरित्र 810 5
- शीलवंती**  
पतिव्रता 805.6  
सच्चरित्रा 810.6
- शीलवती**  
पतिव्रता 805.6  
सच्चरित्रा 810.6
- शीलवान**  
धर्मशील 735 13

## शीलवान [शीलवती]

### शीलवान [शीलवती]

पुण्य कर्ता 814 5  
शिष्ट 733 18  
सज्जन 817 7  
सभ्य 733 13

### शीलहीन

भ्रूसभ्य 734 14  
दुरचरित्र 811 5  
ससद अयोग्य 889 25

### शीलहीनता

असभ्यता 734 1

### शीला

पतिव्रता 805 6  
सच्चरित्रा 810 6

### शीलाधार

सन्धरित्रता 810 2

### शीलित

अध्यीत 321 50  
सहित 1006 2

### शीली

पुण्य कर्ता 814 5  
सभ्य 733 13

### शील्ड

शील्ड 857 18 ⇨

### शील्ड (अँ)

शील्ड 857 18

### शीश

भरतक 140 12  
सिर 140 1

### शीश (जैसे: दशाशीश)

सिरयुक्त 140 23

### शीश नमन

नमाज सिजदा 751 17  
शीश नमन 1060 5 ⇨

### शीश परिधान

सिर परिधान 584 1

### शीशान्ध

केशबध 223 9

### शीशाम

काष्ठ सूची 597 2  
नगर वृक्ष सूची 13 2  
शीशाम 13 22 ⇨

### शीश महल

शीश महल 602 33 ⇨

### शीशायुक्त

सिरयुक्त 140 23

### शीशहीन

सिरहीन 140 24

### शीशा

काँच 283 14  
काँच पटल 990 4  
दर्पण 283 13

### शीशाबाज़

बाज़ीगर 473 18

### शीशा सुराही

शीशा सुराही 679 17 ⇨

### शीशी

काँच बोलत 678 4

दूध बोलत 684 6

बोलत 678 1

मद्य 209 1

### शीशो वाली अलमारी

शो केस 671 9

### शुगा

बाल नोक 113 9

### शुगा कर्म

पुरावन सरकार 798 6

### शुठि

सोठ 281 35

### शुड

सूँड 142 7

### शुडा

मदिरा 209 12

सूँड 142 7

### शुडार

मद्य निर्माता 209 29

### शुडाल

सूँडदार 142 8

हाथी 127 38

### शुडिका

सूँड 142 7

### शुडी

बाल नोक 113 9

सूँडदार 142 8

हाथी 127 38

### शुभ नाशिनी

दुर्गा 776 7

### शुभ निशुभ

अमुरादि जोड़ी सूची 783 4

### शुऊर

कार्य विधि 514 1

शिष्टता 733 7

### शुऊरदार

शिष्ट 733 18

सभ्य 733 13

### शुक

तोता 126 44

लोघ्र 14 24

लोह शिर कवच 921 6

### शुक कूट

बदनवार 1059 8

### शुकदेव

ऋषि मुनि सूची 789 17

### शुक ड्रम

शिलीष 13 21

### शुक सारिका प्रलापन

घोसठ कला सूची 397 4

### शुकायन

गीतम बुद्ध 793 1

तीर्थकर 792 1

### शुकी

मादा तोता 126 45

### शुकैट

शिलीष 13 21

### शुकर

शुकवार 46 8

### शुक

उज्ज्वल 218.37

कर्कश स्वरीय 299 26

किण्वित 195 59

सिरका 277 15

### शुकता

खटास 277 1

### शुका

काँजी 208 13

### शुकि

कपालास्थि कटोरा 683 5

सीपी 124 19

### शुकिका

सीपी 124 19

### शुकिज

मोती 97 2

### शुकि मणि

मोती 97 2

### शुकिवासक

कवच वासी जीव 124 13

### शुक

आलोकित 285 45

### शुक

कृतज्ञता 833 1

### शुक

दया 834 1

दीप्ति 287 16

नवग्रह सूची 261 14

प्रात कालीन शुक 7 10

बलिष्ठता 160 1

बीज 112 1

भूर्भुव स्व 741 27

लूसीफर 785 4

वीर्य 130 10

शक्ति 776 17

शुक ग्रह 7 9

शुकवार 46 8

शुकाचार्य 789 23

श्वेत 289 65

सौर मडल ग्रह सूची 7 4

### शुकगुजार

कृतज्ञ 833 8

### शुकगुजार

धन्यवादी 833 9

### शुकगुजारी

कृतज्ञता 833 1

### शुक ग्रह

शुक ग्रह 7 9 ⇨

### शुकजन

शुकाणु 130 11

### शुकः पत्नी

देवसेना 774 47

### शुकः माता

दिव्या 783.23

### शुक रज

देह मल सूची 215.2

### शुकल

वीर्यीय 130 15

### शुकवार

शुकवार 46.8 ⇨

### शुकवारः हज यात्रा

शुकवार हज यात्रा 1089.8 ⇨

### शुकः शिष्य

देत्य 783 17

### शुकाचार्य

ऋषि मुनि सूची 789 17

शुकाचार्य 789 23 ⇨

### शुकाणु

वीर्य 130 10

शुकाणु 130.11 ⇨

### शुकाना

बख्शीश 640 8

### शुकिया

धन्यवाद 833 2

### शुक्रीय

वीर्यीय 130.15

### शुकल

दशाख 43 8

शिव 767 1

श्वेत 289 65

### शुकलता

श्वेतिमा 289 19

### शुकल पक्ष

शुकल पक्ष 45.3 ⇨

### शुकल पक्षः पंदरहवी तिथि

पूर्णिमा 44 24

### शुकल यजुर्वेद

शुकल यजुर्वेद 740 33 ⇨

### शुकल यजुर्वेदः आरण्यक

बृहदारण्यक 740 20

### शुकल मायस

बगला 126 54

### शुकलांगी

हार सिंगार 13 27

### शुकलांबर

विष्णु 768 1

### शुकला

सरस्वती 775 8

### शुकलाभिसारिका

शुकलाभिसारिका नायिका 456 20

### शुकलाभिसारिका नायिका

शुकलाभिसारिका नायिका 456.20 ⇨

### शुगर पीट (अँ)

चाय काफ़ी: बरतन सूची 680.20

### शुधि

अग्नि 106 1

दीप्ति 287 16

परिपूर्ण 313 14

पापहीन 813.9

पापहीनता 813.1

प्रकाश 287 1

शुक ग्रह 7 9

स्वच्छता 218.1

### शुधिकर्मा

सच्चरित्र 810 5

सत्कर्मी 814 6

**शुधिता**

आत्मसुजीविता 170 3  
आहार शौच 198 6  
ईमानदारी 815.2  
धर्मशीलता 735 2  
पापहीनता 813 1  
शोभा 226 1  
शौच निवृत्ति 216 7  
श्वेतिमा 289 19  
सध्वरित्रता 810 2  
स्वच्छता 218 1

**शुधि द्रुम**

पीपल 13 14

**शुधिष्मान**

दीप्त 287 34

**शुतुर**

ऊँट 127 27

**शुतुरगाव**

जिराफ 127 29

**शुतुरमुर्ग**

उड़ानहीन पक्षी सूची 126 5

**शुतुरमुर्ग**

शुतुरमुर्ग 126 72 ⇨

**शुद**

उत्पन्न 546 9  
कार्यान्वित 505 27  
घटित 75 11  
समाप्त (कार्य) 522 4

**शुदा**

कार्यान्वित 505 27  
घटित 75 11  
समाप्त (कार्य) 522 4

**शुद्ध**

अभिहित 1008 30  
ईमानदार 815 7  
उज्ज्वल 218 37  
खरा [खरी] 98 12  
परिपूर्ण 313 14  
पापहीन 813 9  
शुद्ध वर्णीय 731 39  
शौच (आहार) 198.13  
संगत 438 6  
सत्यतापूर्ण 820.20  
स्वच्छ 218.33

**शुद्ध अध्यात्म ज्ञान**

केवल ज्ञान 761 5

**शुद्ध अभावस्था**

शुद्ध अभावस्था 44.23 ⇨

**शुद्ध आचरण**

सध्वरित्रता 810 2

**शुद्ध उच्चारण**

शुद्ध उच्चारण 411.4 ⇨

**शुद्ध करना**

विशोधित करना 219.6

**शुद्धकृत**

विशुद्ध 219.7

**शुद्ध धी**

शुद्ध धी 196.9 ⇨

**शुद्धचित्त**

सदाशय 817 10

**शुद्धचित्तता**

सदाशयता 817 4

**शुद्धता**

अभिहितता 1008 18  
ईमानदारी 815 2  
घातु खरापन 98 4  
परिष्कृतता 537 3  
विशुद्धता 219 2  
स्वच्छता 218 1

**शुद्ध धातु**

खरा चाँदी सोना 95 2

**शुद्धधी**

छलहीन 815 8

**शुद्धन**

विशोधन 2 9 1

**शुद्ध पूर्णिमा**

शुद्ध पूर्णिमा 44 26 ⇨

**शुद्धमनस्क**

सदाशय 817 10

**शुद्ध मनस्कता**

सदाशयता 817 4

**शुद्ध मनस्क होना**

सदाशय होना 817 6

**शुद्ध राग**

शुद्ध राग 457 18 ⇨

**शुद्ध लाभ**

शुद्ध लाभ 646 5 ⇨

**शुद्धवर्ण**

शुद्ध वर्णीय 731 3५

**शुद्ध वर्णता**

वर्ण शुद्धता 731 30

**शुद्ध वर्णीय**

शुद्ध वर्णीय 731 39 ⇨

**शुद्ध वायु**

शुद्ध वायु 85.3 ⇨

**शुद्ध वैष्णव भोजन**

वैष्णव आहार 204 3

**शुद्ध स्वर्ण**

शुद्ध स्वर्ण 95 5 ⇨

**शुद्धहृदय**

ईमानदार 815 7

**शुद्धांतघारी**

अंतपुर पहरेदार 908 11

**शुद्धात्मा**

शिव 767.1

सदाशय 817 10

**शुद्धाशय**

ईमानदार 815 7

छलहीन 815.8

सदाशय 817 10

**शुद्धाशयता**

सदाशयता 817 4

**शुद्धाशय होना**

सदाशय होना 817 6

**शुद्धि**

अपराध मुक्ति 869 4

धर्म परिवर्तन 742 14

पाप प्रायश्चित्त 813 4

विशोधन 219 1

स्वच्छीकरण 218 2

**शुद्धिकर**

विशोधक 219 9

**शुद्धिकर जीव**

अपमार्जक जंतु 121 15

**शुद्धिकरण**

धर्म परिवर्तन 742 14

विशोधन 219 1

**शुद्धिकारी**

स्वच्छक 218 38

**शुद्धोदयन**

बुद्ध पिता 793 7

**शुद्धोधन**

गीतम बुद्ध 793 1

**शुनक**

कुत्ता 127 71

कुत्ता शिशु 230 13

**शुनाशीर**

शुनाशीर द्वय 773 46

**शुनाशीर द्वय**

शुनाशीर द्वय 773 46 ⇨

**शुनासीर**

इंद्र 773 5

शुनाशीर द्वय 773 46

**शुनि**

कुत्ता 127 71

**शुनी**

मादा कुत्ता 127 72

**शुबहा**

भ्रम 342 1

सदेह 341 3

**शुभंकर**

कल्याणकारी 710 21

समुद्दिप्रद 626 12

हितकारी 712 13

**शुभंकर [शुभंकर]**

सत्कर्मी 814 6

**शुभंकर**

दुर्गा 776 7

**शुभ**

उपयोगी 524.18

कलापूर्ण 402 3

कल्याण 710 2

कल्याणकारी 710 21

कल्याणपूर्ण 710 20

कल्याण सूचक 710 22

प्रशसनीय 841.30

प्रिय 369 7

रोषक 400 12

शिव 767 1

संगत 438.6

सत्कर्मी 814.6

समुद्दिप्रद 826 12

सुख 390.2

सुखद 390.11

सौभाग्य 260 17

सौभाग्यशाली 260 33

स्वच्छ 218.33

स्वास्थ्यप्रद 161 6

हित 712 1

**शुभ अवसर**

मंगलोत्सव 796 1

**शुभ आरंभ**

नीर्व रखाई 599 23

शुभ आरंभ 521.2 ⇨

शुभ आरंभ. उक्ति सूची

शुभ आरंभ उक्ति सूची 521 9 ⇨

शुभ आरंभ: कृत्य सूची

शुभ आरंभ कृत्य सूची 521 3 ⇨

**शुभ उत्सव**

मंगलोत्सव 796 1

**शुभकर**

कल्याणकारी 710 21

**शुभकर [शुभकरी]**

सत्कर्मी 814 6

**शुभकरता**

कल्याणकारिता 710 3

**शुभ कर्म**

सत्कर्म 814 2

**शुभकर्मा**

पुण्य कर्ता 814 5

**शुभ कामना**

कल्याण कामना 710 4

बघाई 841 22

**शुभ कामना सहित**

पत्रांत स्तुति आदि सूची 444 42

**शुभ कार्य**

मंगलोत्सव 796 1

**शुभ काल**

उन्नति काल 534 2

मंगल काल 796 3

**शुभगा**

सक्ति देवी 774 6

**शुभ गीत**

मंगल गीत 796.14

**शुभ ग्रह**

शुभ ग्रह 261.15 ⇨

**शुभ ग्रह योग**

इष्ट योग 261.29

**शुभ घडी**

मंगल काल 796.3

**शुभ धितन**

कल्याण कामना 710 4

मित्रता 705 1

**शुभ धितन करना**

कल्याण कामना करना 710.15

**शुभद**

पीपल 13.14

सुखद 390.11

**शुभद [शुभदा]**

कल्याणकारी 710.21

**शुभदर्शन**

कल्याण सूचक 710.22

## शुभ दिन

सुंदर 157 7	सोआ 189 37
<b>शुभ दिन</b>	<b>शुभाकांक्षी</b>
मंगल दिवस 796 4	कल्याण कामी 710 23
विवाह दिवस 799 34	पुरुष मित्र 705.2
<b>शुभ दिवस</b>	<b>शुभागंतुक</b>
मंगल दिवस 796 4	शुभागंतुक 1093.14 ⇨
<b>शुभ दृष्टि</b>	<b>शुभागर्त</b>
दया दृष्टि 834 3	स्वागत 1059 1
<b>शुभ नाम</b>	<b>शुभागत</b>
श्रोता नाम 315.8	अतिथि 183 16
<b>शुभन्यु</b>	शुभागतुक 1093 14
कल्याणपूर्ण 710 20	<b>शुभागमन</b>
<b>शुभमस्तु</b>	शुभागमन 1093 2 ⇨
शुभमस्तु 710.31 ⇨	स्वागत 1059 1
<b>शुभ राशि</b>	<b>शुभागमन अभिवादन</b>
गुड नाइट 1060 17	अभिवादन 1060 1
<b>शुभ लान</b>	<b>शुभागमन करना</b>
मंगल काल 796 3	शुभागमन करना 1093 7 ⇨
<b>शुभ लाभ</b>	<b>शुभानुष्ठान</b>
शुभ लाभ 646.3 ⇨	मंगलौत्सव 796 1
<b>शुभ वस्त्र</b>	<b>शुभारंभ</b>
मंगल परिधान 796 6	मंगलाचरण 465 7
<b>शुभ वार्ता</b>	शुभ आरंभ 521 2
न्यू टेस्टामेंट 739 12	<b>शुभावह</b>
<b>शुभ शकुन</b>	कल्याणकारी 710 21
शुभ शकुन 262 2 ⇨	<b>शुभाशीर्वाद</b>
<b>शुभ संगीत</b>	आशीर्वाद 714 4
मंगल संगीत 796 7	वरदान 714 1
<b>शुभ संदेश</b>	<b>शुभाशीष</b>
न्यू टेस्टामेंट 739 12	आशीर्वाद 714.4
सुसमाचार 440.2	<b>शुभाशुभ</b>
<b>शुभ संख्या</b>	उत्तम अनुत्तम 313 10
गुड ईवनिंग 1060.16	उन्नति अवनति 532.3
<b>शुभ संभावना</b>	<b>शुभाशुभ कथन</b>
आशा 375.1	शकुन विचार 262 4
<b>शुभ समाचार</b>	<b>शुभासन</b>
सुसमाचार 440 2	सम्मान स्थान 854 7
<b>शुभ सूचक</b>	<b>शुभेच्छा</b>
कल्याण सूचक 710 22	कल्याण कामना 710 4
<b>शुभसूचक भवन</b>	<b>शुभेच्छुक</b>
गोमुखी भवन 602 30	कल्याण कामी 710 23
<b>शुभ स्थली</b>	<b>शुभोदय</b>
यज्ञ स्थान 753 17	सौभाग्यशाली 260 33
<b>शुभांग</b>	<b>शुभ</b>
शिव 767 1	आलोकित 285 45
<b>शुभांग [शुभांगी]</b>	उज्ज्वल 218 37
सुंदर 157 7	घाँटी 95 3
<b>शुभांगी</b>	तेजोमंडित 839 11
कुबेर पत्नी सूची 779 7	वैभवशाली 226 15
रति 774 78	शोभायुक्त 226 11
सुंदर स्त्री 157.2	श्वेत 289.65
<b>शुभांजन</b>	<b>शुभ्रता</b>
सहजन 13 24	शोभा 226 1
<b>शुभा</b>	श्वेतिमा 289 19
दुब घास 11 10	<b>शुभ्रदती</b>
देवता सभा 772 11	दिग्गज पत्नी सूची 780 4
परस्त्री 806 6	<b>शुभ्रांगु</b>
शोभा 226.1	कपूर 274 14

चंद्रमा 8 2	<b>शुभ्र</b>
<b>शुभ्रा</b>	गौरवर्ण स्त्री 157 3
गौरवर्ण स्त्री 157 3	घीनी 280.16
घीनी 280.16	दीप्ति 287 16
<b>शुभ्रा</b>	<b>शुभ्रा</b>
आकलन 947 5	गणना 950 1
गणना 950 1	संख्या 948 1
<b>शुभ्रा दाना</b>	जपमाला: बड़ा दाना 749 8
जपमाला: बड़ा दाना 749 8	<b>शुभ्रादि</b>
<b>शुभ्रादि</b>	परिगणक 950 20
परिगणक 950 20	<b>शुभ्रादी</b>
<b>शुभ्रादी</b>	गणना कर्म 950 11
गणना कर्म 950 11	<b>शुभ्राल</b>
<b>शुभ्राल</b>	उत्तर 29 9
उत्तर 29 9	<b>शुभ्राली</b>
<b>शुभ्राली</b>	उत्तरी 29 30
उत्तरी 29 30	<b>शुभ्रआत</b>
<b>शुभ्रआत</b>	आरंभ 994 3
आरंभ 994 3	कार्य आरंभ 521 1
कार्य आरंभ 521 1	रीगारंभ 1001 18
रीगारंभ 1001 18	<b>शुभ्रआत खाल्ना</b>
<b>शुभ्रआत खाल्ना</b>	आरंभ अत 994.1
आरंभ अत 994.1	<b>शुभ्रआती</b>
<b>शुभ्रआती</b>	आदिम 63 7
आदिम 63 7	आरंभिक 994 16
आरंभिक 994 16	<b>शुभ्र</b>
<b>शुभ्र</b>	कार्य आरंभ 521 1
कार्य आरंभ 521 1	<b>शुभ्र आखिर</b>
<b>शुभ्र आखिर</b>	आरंभ अत 994 1
आरंभ अत 994 1	<b>शुभ्र करना</b>
<b>शुभ्र करना</b>	गत्वरित करना 1046 14
गत्वरित करना 1046 14	प्रवर्तित करना 693 7
प्रवर्तित करना 693 7	संस्थापित करना 693 5
संस्थापित करना 693 5	<b>शुभ्र में</b>
<b>शुभ्र में</b>	पहले पहल 72 7
पहले पहल 72 7	<b>शुभ्र से आखिर तक</b>
<b>शुभ्र से आखिर तक</b>	आद्योपांतत 940 16
आद्योपांतत 940 16	<b>शुभ्रक</b>
<b>शुभ्रक</b>	कन्या शुभ्रक 802 2
कन्या शुभ्रक 802 2	कर 647 2
कर 647 2	घटा 665 1
घटा 665 1	दहेज 802 4
दहेज 802 4	पारिश्रमिक 643 8
पारिश्रमिक 643 8	प्रवेश शुभ्रक 665.4
प्रवेश शुभ्रक 665.4	मूल्य 664 1
मूल्य 664 1	शुभ्रक 665.2 ⇨
<b>शुभ्रकाध्यक्ष</b>	कर संग्राहक 647 34
कर संग्राहक 647 34	दुंगी मुची 647.35
दुंगी मुची 647.35	<b>शुभ्रक</b>
<b>शुभ्रक</b>	ताँबा 94 8
ताँबा 94 8	<b>शुभ्रकण</b>
<b>शुभ्रकण</b>	पीतल 94 10
पीतल 94 10	<b>शुभ्रकारि</b>
<b>शुभ्रकारि</b>	गंधक 92.8

<b>शुभ्रक</b>	परिचारक 651.28
<b>शुभ्रका</b>	परिचर्या 651.6
<b>शुभ्रि</b>	छिद्रयुक्त 271 23
<b>शुभ्रि वाद्य</b>	वाद्ययंत्र प्रकार सूची 461 12
<b>शुभ्रि वाद्य</b>	शुभ्रि वाद्य 461.20 ⇨
<b>शुभ्रक</b>	अकाव्यात्मक 451.30
अकाव्यात्मक 451.30	अनघुपड़ा [अनघुपड़ी] 197 19
अनघुपड़ा [अनघुपड़ी] 197 19	अपठनीय 401 12
अपठनीय 401 12	अभावुक 358 30
अभावुक 358 30	अरसिक 838 15
अरसिक 838 15	अरोघक 401 10
अरोघक 401 10	अवशोषित 1002 29
अवशोषित 1002 29	अस्निग्ध 197 17
अस्निग्ध 197 17	कल्पनाहीन 308 16
कल्पनाहीन 308 16	जलहीन 89 11
जलहीन 89 11	दुग्धहीन 554 29
दुग्धहीन 554 29	रसहीन 84 18
रसहीन 84 18	रक्ष स्वभावी 838.12
रक्ष स्वभावी 838.12	रुखा [रुखी] 197 24
रुखा [रुखी] 197 24	वनस्पतिहीन 111 32
वनस्पतिहीन 111 32	वर्षाहीन 54 20
वर्षाहीन 54 20	वसाहीन 132 23
वसाहीन 132 23	शुभ्रक 89 9 ⇨
शुभ्रक 89 9 ⇨	संगीतहीन 457 44
संगीतहीन 457 44	सारहीन 84 20
<b>शुभ्रक करना</b>	शुभ्रक करना 89.6 ⇨
<b>शुभ्रक कर्ता</b>	शुभ्रक कर्ता 89 10 ⇨
<b>शुभ्रकता</b>	अरसिकता 838.7
अरसिकता 838.7	जलहीनता 89.4
जलहीनता 89.4	वनस्पतिहीनता 111 3
वनस्पतिहीनता 111 3	वर्षाहीनता 54 2
वर्षाहीनता 54 2	शुभ्रकता 89.1 ⇨
<b>शुभ्रकन</b>	शुभ्रकन 89.2 ⇨
<b>शुभ्रकन: भार क्षय</b>	शुभ्रकन: भार क्षय 89.3 ⇨
<b>शुभ्रक फल</b>	मेवा 191 1
<b>शुभ्रक भार ह्रास</b>	शुभ्रक भार ह्रास 963.8 ⇨
<b>शुभ्रकांग</b>	कुपोषित 179 24
<b>शुभ्रकाद्रक</b>	सोठ 281.35
<b>शुभ्रकावकृष्ट</b>	पट सप्तक पूर्वर्ग सूची 468 19
<b>शुभ्रकीकरण</b>	सुखाई 220.17
<b>शुभ्रक</b>	अनाज: बाल 113.8



कलगी 140 5  
 छोर 1000 3  
 नोक 270.8  
 बाल नोक 113 9  
 शिखर 982 6  
 शोक 383.1  
**शूकज**  
 जवाखार 87 13  
**शूकधानी**  
 आलपिन कुशन 417 6  
**शूकर**  
 वराह अवतार 769.34  
 सूअर 127 81  
**शूकर क्षेत्र**  
 सूअर बाड़ा 603 25  
**शूकर भक्षी**  
 शूकर भक्षी 205 9 ⇨  
**शूकर मांस**  
 शूकर मांस 206 23 ⇨  
**शूकर रोम**  
 शूकर रोम 135 4 ⇨  
**शूकरावतार**  
 वराह अवतार 769 34  
**शूकरी**  
 मादा सूअर 127 82  
**शूगर (अं)**  
 चीनी 280.16  
 शर्करा 280 21  
**शूगर की बीमारी**  
 मधुमेह 163 34  
**शूगर कैंडी (अं)**  
 मिठाई गोली 203 51  
**शूगर ज़ीप (अं)**  
 मिठाई गोली 203 51  
**शूज (अं)**  
 जूता 588 14  
**शूट करना**  
 विस्फोट प्रणोदित करना 1051 21  
**शूटिंग (अं)**  
 फिल्माकन 472 15  
 फोटोग्राफिंग 405 14  
**शूटिंग स्ट्रेज (अं)**  
 फिल्म स्टूडियो 471 20  
**शूद्र**  
 बुध ग्रह 7.5  
 वर्ण सूची 731 4  
 शूद्र 731.28 ⇨  
**शूद्रक**  
 शंबूक 770.57  
**शूद्रकेश्वर**  
 शिवलिंग सूची 746 17  
**शूद्र तपस्वी**  
 शंबूक 770.57  
**शूद्र स्त्री**  
 शूद्र स्त्री 731.29 ⇨  
**शूद्रा**  
 नवकन्या सूची 774 20  
 शूद्र स्त्री 731.29

**शूद्राणी**  
 शूद्र स्त्री 731.29  
**शूद्री**  
 शूद्र स्त्री 731.29  
**शूद्रीय**  
 शूद्रीय 731 38 ⇨  
**शूनर (अं)**  
 नौका सूची 1072 3  
**शूना**  
 क्रसाई घर 206 42  
**शून्य**  
 अनावासित 617 13  
 अनुभूतिहीन 264 19  
 आकाश 2 1  
 आयामहीन 964 21  
 उदास 380 14  
 एकातता 697 3  
 एकात स्थान 697 4  
 ताराहीन 3 17  
 नष्ट 531 7  
 निराकार 967 13  
 निर्जन 617 16  
 निर्वात 1005 4  
 निर्वातता 1005 3  
 प्रयोजनहीन 509 3  
 बिंदु 968 1  
**-शून्य**  
 रहित प्रत्यय सूची 1007 6  
**शून्य**  
 रिक्त 1005 7  
 रिक्त 1005 7  
 रिक्तता 1005 1  
 शून्य 948 13 ⇨  
 शून्य अवस्था 79 2  
 शून्य चिह्न 948 14  
 शून्य स्थान 33 4  
**शून्य अवस्था**  
 शून्य अवस्था 79 2 ⇨  
**शून्यः उपमान सूची**  
 शून्य उपमान सूची 948 15 ⇨  
**शून्यक**  
 निर्वात 1005.4  
**शून्य चिह्न**  
 शून्य चिह्न 948 14 ⇨  
**शून्यता**  
 अनुभूतिहीनता 264.1  
 अवसन्नता 264 4  
 असीमता 1001 3  
 आयामहीनता 964 3  
 निर्वातता 1005 3  
 रहिनता 1007 1  
 रिक्तता 1005.1  
 रिक्तता 1005 1  
 शून्य अवस्था 79 2  
**शून्यताः ध्वनि**  
 झार्यंझार्यं 297 21

**शून्य पथ**  
 एकात मार्ग 1063 18  
**शून्यपाल**  
 राजा प्रतिनिधि शासक 882.29  
 रीजेंट 882 30  
 स्थानापन्न व्यक्ति 653 21  
**शून्यमूल**  
 निराधार 1019 16  
**शून्यवाद**  
 नास्तिकतावाद 760 14  
 बौद्ध धर्म 737 6  
 शून्यवाद 760 25 ⇨  
**शून्यवादी**  
 बौद्ध धर्मावलंबी 737 7  
**शून्य स्थान**  
 शून्य स्थान 33 4 ⇨  
**शून्या**  
 नली 684 4  
**शूप भूषणा**  
 शीतला 774 91  
**शूप**  
 अकल्याणकारी 711 9  
 दुर्भाग्यशाली 260 34  
**शूपी**  
 अकल्याणकारिता 711 2  
 कृपणता 639 9  
**शूर**  
 कुत्ता 127 11  
 वीर 396 6  
 वीर पुरुष 396 2  
 शक्तिशाली 487 20  
 शूरसेन 771.92  
 सिंह 127 50  
**शूर कुमार**  
 वसुदेव 771 86  
**शूरता**  
 वीरता 396 1  
**शूर विद्या**  
 युद्ध विद्या 907 28  
**शूरवीर**  
 महायोद्धा 934 20  
 योद्धा 934.15  
 वीर पुरुष 396 2  
**शूरवीरता**  
 वीरता 396 1  
**शूर श्लोक**  
 विजय गाथा 841 8  
 वीर काव्य 451 14  
**शूरसेन**  
 शत्रुघ्न पुत्र सूची 770.60  
 शूरसेन 771.92 ⇨  
**शूर्प**  
 आयतन मापी पात्र सूची 959.58  
**शूर्पकर्ण**  
 गणेश 773 22  
 हथ्थी 127.38  
**शूर्पकारि**  
 कामदेव 773.12

**शूर्पणखा**  
 राक्षस स्त्री सूची 784.23  
 रावण बहन 784 16  
 शूर्पणखा 784.27 ⇨  
**शूर्पणखा प्रसंग**  
 रामलीला प्रसंग सूची 57 13  
**शूर्पा**  
 शूर्पणखा 784 27  
**शूर्मिका**  
 लोह मूर्ति 406 14  
**शूर्मी**  
 लोह मूर्ति 406 14  
**शूर्य**  
 वीरता 396 1  
**शूल**  
 कटक 115 4  
 कील 1016 8  
 टीरा 392 13  
 भाला 925 4  
 रोग 163 1  
 लोह कील 1016 14  
 शारीरिक पीडा 392 4  
 शिव त्रिशूल 767 11  
 शूल 925 8 ⇨  
 संधिवात 163 23  
**शूलन**  
 कटकन 117 9  
**शूलना**  
 टीसना 392 19  
**शूलपाणि**  
 शिव 767 1  
**शूलहस्त**  
 भालाधारी 930 16  
**शूलहीन**  
 कटकहीन 115 16  
**शूलास्त्र**  
 शूलास्त्र 925 1 ⇨  
**शूलिक**  
 भालाधारी 930 16  
 सीख कबाब 206 36  
**शूलिका**  
 सीख 560 8  
**शूलित**  
 कटकयुक्त 115.15  
**शूली**  
 बरगद 13 16  
 भालाधारी 930 16  
 शिव 767 1  
 सुली. मृत्पु दंड 871.8  
 सुली यंत्र 871 16  
**शूली यंत्र**  
 सुली यंत्र 871.16  
**शू जेस (अं)**  
 जूता तसमा 571 32  
**शूल्फ मांस**  
 सीख कबाब 206.36  
**शूखल**  
 जरीब 959.22

## शृङ्खला

शृङ्खला	
कठहार	228 26
करघनी	228.7
गला ज़री	555 13
पक्ति	691 4
परपरा	795 1
बेड़ी	868 25
माल	1076 28
लड़ी	228 38
वश	727 1
शृङ्खला	569 26 ⇨
शृङ्खला: कड़ी	
शृङ्खला कड़ी	569 27 ⇨
शृङ्खलापूर्ण	
तारतम्यपूर्ण	1049 12
शृङ्खलाबद्ध	
बेड़ीबद्ध	868 39
शृङ्खलाबद्धता	
नियमितता	71 2
शृङ्खलाहीन	
अनियमित	71 11
बकवासपूर्ण	428 25
योजनाहीन	520 21
सदर्भहीन	439 7
शृङ्खलाहीनतः	
क्रमहीनत	992 7
शृङ्खलाहीनता	
अनियमितता	71 3
क्रमहीनता	992 1
सदर्भहीनता	439 3
शृङ्खलित	
कमिक	991 21
बेड़ीबद्ध	868 39
योजित	520 17
व्युहबद्ध	907 46
शृङ्खलितता	
कमिकता	991 2
शृंग	
उच्चता उपमान सूची	982 13
उदत्त	144 5
कलश	745 43
गोपुर	608 8
टोप टोपी कलगी	584 19
नरसिंघा	461 60
पर्वत शिखर	16 11
बाण अग्रभाग	926 18
भवन शिखर	611 1
मस्तूल शिखर	1073 12
सींग	140 8
शृंगकूट	
पौराणिक पर्वत सूची	17 8
शृंगकूट	17 16 ⇨
शृंगगिरि	
शृंगकूट	17 16
शृंगज	
अगरु	274 11
शृंग मीन	
सिंघाड़ा मछली	125 14

शृंगयुक्त	
सींगदार	140 25
शृंगवेर	
अदरक	278 2
सोठ	281 35
शृंगवेर पुरः निचाद राज	
गुहराज	770 26
शृंगहीन	
सींगहीन	140 26
शृंगाटक	
चौराहा	1064 5
टिक्का	206 38
समोसा	200 22
सिंघाड़ा	190 35
शृंगार	
प्रिय सयोग	389 3
प्रेम	368 1
बान तेल	800 30
शृंगार	222 1 ⇨
शृंगार रस	455 20
स्वर्ण	95 4
शृंगार (दे.)	
अलकरण	227 1
शोभा	226 1
शोभा-न्वयन	226 2
शृंगारक	
शृंगार रस	455 20
सिंदूर	225 18
शृंगार कक्ष	
शृंगार कक्ष	222 7 ⇨
शृंगार कथा	
प्रेम कथा	450 4
शृंगार करना	
शृंगार करना	222 14 ⇨
शृंगार कर्ता	
मेकअप मैक	464 40
शृंगार कर्म	
शृंगार कर्म	222 9 ⇨
शृंगार कर्म करना	
शृंगार कर्म करना	222 15 ⇨
शृंगार कर्मी	
शृंगार कर्मी	222 10 ⇨
शृंगार घर	
शृंगार घर	222 8 ⇨
शृंगारण	
शृंगार कर्म	222 9
शृंगार पेटी	
सिंघारदान	225 34
शृंगार प्रेम	
शृंगार प्रेम	222 4 ⇨
शृंगार प्रेमी (पुरुष)	
शृंगार प्रेमी (पुरुष)	222 5 ⇨
शृंगार प्रेमी (स्त्री)	
शृंगार प्रेमी (स्त्री)	222 6 ⇨
शृंगार भूषण	
सिंदूर	225 18
शृंगार मेज़	
ड्रेसिंग टेबल	595 36

शृंगार योनि	
कामदेव	773 12
शृंगार रस	
नवरस सूची	455 11
शृंगार रस	455 20 ⇨
शृंगार शाला	
शृंगार घर	222 8
शृंगार सज्जा	
शृंगार	222 1
शृंगार सज्जित	
शृंगारित	222 17
शृंगार सहाय	
नर्म सचिव	467 17
शृंगार सुख	
सयोग सुख	389 4
शृंगारहाट	
वेश्या महल्ला	807.12
शृंगारिणी	
शृंगार प्रेमी (स्त्री)	222 6
शृंगारित	
शृंगारित	222 17 ⇨
शृंगारी	
शृंगार प्रेमी (पुरुष)	222 5
शृंगारी नायक	456 1
सिंदूरी लाल	289.63
शृंगारी नायक	
शृंगारी नायक	456 1 ⇨
शृंगारी नायिका	
शृंगारी नायिका	456 6 ⇨
शृंगिणी	
गाय	127 10
शृंगी	
ऑवला	189 6
ऋषि मुनि सूची	789 17
नदी	767 14
नर भेड़	127 25
नरसिंघा	461 60
पर्वत	16 3
बरगद	13 16
वृक्ष	111 18
शिव	767 1
शृंगकूट	17 16
सींगदार	140 25
हाथी	127 38
शृंगाल	
कापुरुष	395 29
गीदक	127 75
शृंगालरूप	
शिव	767 1
शृंगालिका	
पलायन	916 1
मादा गीदक	127 76
युद्ध पलायन	916.5
लोमड़ी	127.79
शृंगालिनी	
मादा गीदक	127 76
शृंगाली	
मादा गीदक	127 76

शृङ्खला (उबली)	91.11
शृङ्खली	
पास्तरीकृत	554 24
शृङ्खलीलन	
पास्तरीकरण	554 9
शेअर	
शेअर	452 27 ⇨
शेअर: आधा भाग	
शेअर आधा भाग	452.29 ⇨
शेअर	
दल नायक	852 6
मठाधीश	744 1
वृद्ध पुरुष	232 4
सूफ़ी पीर	744 19
सूफ़ी सत	790 10
शेअर थिल्ली	
डींगबाज़	842 15
शेअर डोंडू	
टोना टोटका सूची	759 3
शेअर	
गीत स्थायी	451 23
चूड़ामणि	228 10
पर्वत शिखर	16 11
शिखर	982 6
सहजन	13 24
शेअरी	
आत्मप्रशसा	842 1
दिखावटी साहस	394 2
शेअरी	842 5 ⇨
शेअरीखोर	
दर्पी	858 13
शेअरीखोर	842.16 ⇨
शेअरी बघारना	
दर्प करना	858 9
शेअरी बघारना	
शेअरी मारना	842 10
शेअरीबाज़	
शेअरीखोर	842.16
शेअरी मारना	
शेअरी मारना	842.10 ⇨
शेअर	
पशु पूँछ	151.10
शेअर	
पशु पूँछ	151.10
पुरुष जननेन्द्रिय	152 10
शेअरलिखा	
हार सिंगार	13.27
शेअर	
आचरण	808.1
शेअर	
अंशाधिकार	623.9
शेअर	628.13 ⇨
शेअर (औं)	
शेअर	628.13
शेअर कैपिटल (औं)	
शेअर पूँजी	628 12

शेखरधारी	शेख 224 B ⇨	शेखशाही विष्णु	भूत 786 1
शेखरधारी 628.31 ⇨	शेख (अँ)	शेखशाही विष्णु 768 16 ⇨	शैतान 785 1 ⇨
शेखर पत्र	शेख 224 B	शेखहीन विभाजक	शैतान की डोर
शेखर पत्र 628 14 ⇨	शेख (बोलचाल)	शेखहीन विभाजक 955 17 ⇨	जाला 572 17
शेखर पूंजी	दाकी 136 J	शेखहीन विभाज्य	शैतानचपन
शेखर पूंजी 628.12 ⇨	शेख रेखा	शेखहीन विभाजक 955 17	शैतानियत 785 2
शेखर बाज़ार	शेख रेखा 224 9 ⇨	शेखांश	शैतानियत
शेखर बाज़ार 628.15 ⇨	शेखा	असमाप्त अंश 523 3	शैतानियत 785 2 ⇨
शेखर सर्टिक्रेकेट (अँ)	जननेद्रिय 152 9	भाग शेखांश 955 19	शैतानी
शेखर पत्र 628 14	शेख	शेखांश 954 10 ⇨	दुर्जनता 818 1
शेखर होल्डर (अँ)	अ-मृत 250 16	शेखांशाहीन	नटखटपन 860 10
शेखरधारी 628 31	अवशिष्ट 954 17	शेख फलहीन 954 16	शैतानियत 785 2
शेख	अवशिष्ट अंश 939 7	शेखांश	शैथिल्य
पद्य 451 4	अवशिष्टांश 939 17	उच्छिष्ट आहार 198 3	थकान 492 4
वीर पुरुष 396 2	असमाप्त 943 11	शेखावतार	शेदा
शेअर 452 27	असमाप्त (कार्य) 523 6	बलराम 771 74	प्रेमासक्त 368 21
सिंह 127.50	असमाप्त अंश 523 3	लक्ष्मण 770 49	शेदाई
शेख अक्रगन	ईश्वर 764 1	शेखावस्था	प्रेमी 368.2
वीर पुरुष 396 2	भुगतान अकृत 639 17	वृद्धता 232 2	शेक (अँ)
शेख की मौसी	भुगतान शेख 639 2	शेखोक्त	परोस कर्मी सूची 183 21
बिल्ली 127 56	विष्णु मूर्ति सूची 746 7	अधोलिखित 430 22	रसोई अध्यक्ष 195 9
शेख दरवाज़ा	शेखनाग 778 22	परिशिष्ट 447 10	शेफ्ट (अँ)
फाटक 608 9	शेख अंश	शेफू	वात कूप 608 21
शेखदही	शेखांश 954 10	शेफू 220 27 ⇨	शेख मत
राजदंड 408 14	शेख जाति	शेफू (अँ)	शेख संप्रदाय 737 53
शेखदिल	समाकलन 947 8	शेफू 220 27	शेख्या (क्रां)
वीर 396 6	शेखनाग	शेपेन	साबर 582 20
साहसी 394 13	आकाश गंगा 1 14	शेपेन 209.18 ⇨	शेया
शेखनी	पृथ्वीघर सूची 9 3	शेपेन (क्रां)	शय्या 594 1
मादा सिंह 127 51	विष्णु. शय्या 768 9	शेपेन 209 18	शैल
शेखपंजा	शेखनाग 778.22 ⇨	शे	पथरीला [पथरीली] 987.8
बघनखा 922 9	शेखनाग अवतार	भूत 786 1	पर्वत 16 3
शेखपा	लक्ष्मण 770 49	वस्तु 666 1	पर्वताकार ढेर 686 8
कुली 1061 4	शेखनाग: प्रासाद	शैक्षिक	पाषाण 99 1
शेख बकरी	शेखनाग प्रासाद 778.23 ⇨	शैक्षिक 321.27 ⇨	पाषाणीय 99 15
घित पट 481 19	शेखफल	शैख	शैलक
विपरीतता. उपमान सूची 310.13	घटान फल 954 9	सूफी संत 790 10	छोटा पर्वत 16 5
शेख बकरी 476 14 ⇨	शेखफलयुक्त	शैख	शैल कटक
शेख बकरी एक घाट पानी पीना	शेख फलयुक्त 954 15	शैख 670 16 ⇨	पर्वत ढाल 16 12
समकक्ष होना 851 3	शेख फलयुक्त	शैख (अँ)	शैलछाटी
शेख बच्छा	शेख फलयुक्त 954 15 ⇨	शैख 670 16	सिलखड़ी 99.12
वीर पुरुष 396 2	शेख फलहीन	सायबान 615 3	शैलख्य
शेख बबर	शेख फलहीन 954.16 ⇨	शैखो (अँ)	शिलाजीत 84 12
बबर शेख 127.52	शेखफलहीन	रग छाया 289 3	शैलज
शेखमूला भवन	शेख फलहीन 954 16	शैखोग्राह (अँ)	शिलाजीत 84 12
सिंहमुखी भवन 802 31	शेख भाग	छायाकृति 405 2	शैलजा
शेखबानी	असमाप्त अंश 523 3	शैखोपले (अँ)	पार्वती 776.9
शेखबानी 585.47 ⇨	शेख भुगतान	छाया नाटक 463 21	शैलधन्वा
शेख हथ्थी	भुगतान शेख 839.2	शैखोवर्क	शिव 767 1
शत्रुता. उपमान सूची 706 22	शेखयुक्त	शैखोवर्क 577.22 ⇨	शैलधर
शेखों वाली	अवशेषयुक्त 939.18	शैखोवर्क (अँ)	कृष्ण 771 1
वैष्णव देवी 774 88	शेख रात्रि	शैखोवर्क 577 22	शैल निर्यास
शेखों वाली	रात. चौथा पहर 49 9	शैतान	शिलाजीत 84 12
वैष्णव देवी 774 88	शेखशाही	अहिर्मन 785.3	शैल पटल
शेखों हाथरी	विष्णु 768.1	आँधी धूल 85.6	पाषाण पटल 990.19
काव्य 451.7	शेखशाही विष्णु 768 16	चक्रवात 85.10	शैल प्रतिमा
शेख	शेखशाही नारायण	दुर्जन 818.5	प्रस्तर मूर्ति 406 9
नाग 778 12	शेखशाही नारायण 764.20 ⇨	नटखट 860.27	

## शैल बाला

- शैल बाला**  
नदी 20 1
- शैल शिखर**  
पर्वत शिखर 16 11
- शैल चुत्ता**  
गंगा नदी 20 10
- शैलानग**  
पर्वत ढाल 16 12
- शैलाख्य**  
शिलाजीत 84 12
- शैलाग्र**  
पर्वत शिखर 16 11
- शैलाट**  
किरात जाति 732 5
- शैलाधारा**  
पृथ्वी 9 1
- शैलाधिप**  
हिमालय 17 7
- शैलाली**  
अभिनेता 464 5  
नट 473 10  
नर्तक 462 13
- शैलाह्व**  
शिलाजीत 84 12
- शैली**  
अदा 860 4  
कला शैली 397 14  
कार्य विधि 514 1  
काव्य प्रवृत्ति 453 13  
परंपरा 795 5  
परिपाटी 514 9  
भाषा शैली 421 18  
संगीत घराना 457 10
- शैलीय**  
कार्य विधीय 514 13
- शैलीहीनता**  
विधिहीनता 515 1
- शैलूष**  
अभिनेता 464.5  
गधर्व सूची 778 5  
ताल धारक 458 24  
नट 473 10  
नर्तक 462 13  
बैड मास्टर 460 5  
संगीत सहायक 460 4
- शैलूषकी**  
नटी 473 11
- शैलूषिका**  
अभिनेत्री 464 6
- शैलेंद्र**  
हिमालय 17 7
- शैलेय**  
घट्टानी 99 17  
पथरीला [पथरीली] 987 8  
पाषाणीय 99 15  
भ्रमर 122 33  
शिलाजीत 84 12

- शैलेयक**  
शिलाजीत 84 12  
सेधा नमक 279.9
- शैलेश**  
हिमालय 17 7
- शैलेश्वर**  
विष्णु 768 1
- शैलेयी**  
पार्वती 776 9
- शैलो फ्राइंग (ऑ)**  
तवा तलाई 195.34
- शैल्टर (ऑ)**  
शरण स्थल 910 5
- शैलक (ऑ)**  
आला 671 18
- शैलक (ऑ)**  
पलेडी 671 23
- शैल्य**  
घट्टानी 99 17  
पथरीला [पथरीली] 987 8
- शैव**  
घट्टा 212 7  
शिव विषयक 767 2  
शैव संप्रदाय सदस्य 737 54  
सामिष 205 3
- शैव धर्म**  
शैव संप्रदाय 737 53
- शैव संप्रदाय**  
शैव संप्रदाय 737 53 ⇌
- शैव संप्रदाय: सदस्य**  
शैव संप्रदाय सदस्य 737 54 ⇌
- शैवालिनी**  
नदी 20 1
- शैव्य**  
घोड़ा 127 35
- शैशव**  
शिशु अवस्था 230 1
- शैशवीय**  
शिशु कालीन 230.31
- शो**  
शो 468.5 ⇌
- शो (ऑ)**  
तस्क भङ्क 226 4  
परिकल्प प्रदर्शन 520 7  
प्रदर्शन खेल 473 1  
शो 468 5
- शोक**  
दुख 391 1  
मनोव्यथा 391 7  
मृत्यु शोक 253.14  
शोक 383.1 ⇌
- शोक (करुण)**  
स्थायी भाव सूची 358.4
- शोक अभिवादन**  
शोक अभिवादन 1060.23 ⇌
- शोक करना**  
शोक करना 383.5 ⇌

- शोक कर्ता**  
मृत्यु शोक कर्ता 253 40
- शोक कार्य**  
अमंगल कार्य 797 1
- शोक काल**  
शोक काल 797 8 ⇌
- शोकग्रस्त**  
मृत्यु शोकग्रस्त 253 39  
शोकग्रस्त 383.8 ⇌
- शोकघ्न**  
अशोक 13.4  
शोक विस्मारक 393 24
- शोकजनक**  
शोकप्रद 383.9
- शोक ध्वनि**  
शोक ध्वनि 383.4 ⇌
- शोक नाहाक**  
शोक विस्मारक 393 24
- शोकनाशन**  
शिव 767 1
- शोक परिधान**  
अमंगल परिधान 797 5
- शोकपूर्ण**  
अश्रुपूर्ण 387 7  
शोकपूर्ण 383 7 ⇌
- शोकप्रद**  
मनोव्यथाकारी 391 27  
शोकप्रद 383.9 ⇌
- शोक वस्त्र**  
अमंगल परिधान 797 5
- शोक विस्मरण**  
शोक विस्मरण 393 10 ⇌
- शोक विस्मारक**  
शोक विस्मारक 393 24 ⇌
- शोक विस्मृत करना**  
शोक विस्मृत करना 393.17 ⇌
- शोक विस्मृत होना**  
शोक विस्मृत होना 393.16 ⇌
- शोक विह्वल**  
शोकग्रस्त 383.8
- शोक संगीत**  
अमंगल संगीत 797 6
- शोक संतप्त**  
मृत्यु शोकग्रस्त 253 39  
शोकग्रस्त 383 8
- शोक संवेदना**  
मृत्यु संवेदना 253.17
- शोकहंता**  
शोक विस्मारक 393 24
- शोकहर**  
शोक विस्मारक 393.24
- शोकहीन**  
शोकहीन 382.24 ⇌
- शोकहीनता**  
शोकहीनता 382.9 ⇌
- शोकांत**  
ट्रेजेडी 463 3

- शोकाकुल**  
मृत्यु शोकग्रस्त 253.39  
शोकग्रस्त 383 8
- शोकातुर**  
शोकग्रस्त 383.8
- शोकान्वित**  
शोकग्रस्त 383 8
- शोकारि**  
कदब 13 6
- शोकार्त**  
शोकग्रस्त 383 8
- शोकालय**  
मृत्यु शोकगृह 253 16
- शोकावसर**  
अमंगल कार्य 797 1
- शोकाविष्ट**  
शोकग्रस्त 383 8
- शोकित**  
शोकग्रस्त 383 8
- शोकिनी**  
वियोगिनी 388 9
- शोकी**  
उदास 380 14  
शोकग्रस्त 383 8
- शो केस**  
शो केस 671 9 ⇌
- शो केस (ऑ)**  
शो केस 671 9
- शोकोच्छ्वास**  
आह 386 4
- शोकोत्सव**  
अमंगल उत्सव 797 2
- शोक्र**  
घचल 860.24  
घटकीला [घटकीली] 289 33  
ढीठ 860.26  
घृष्टभाषी 432 14  
नखरेबाज़ 860 18  
नटखट 860.27
- शोक्रअंदाज़**  
अदाबाज़ 860.19  
नखरेबाज़ 860 18
- शोक्रजबान**  
घृष्टभाषी 432.14
- शोस्त्री**  
इतराहट 860.5  
घंचलता 860 8  
नटखटपन 860 10  
नाज़ नख़रा 860 1
- शोष**  
चिंता 377.2  
दुःख 391.1  
मनोव्यथा 391 7  
शोक 383.1
- शोषनीय**  
चिंताजनक 377 12  
दयनीय 834.16

**शोचनीयता**  
दयनीयता 834 7

**शोचपूर्ण**  
दिताग्रस्त 377 10  
दिताजनक 377 12

**शो जमना**  
रसोत्पाद होना 468 33

**शोणित**  
रक्तरंजित 289 58  
रुधिर 131 1  
लाल 289 60

**शोध**  
शोध 166 8 ⇨

**शोध**  
अनुसंधान 307 4  
खोज 336.4  
परिष्कार 537.1  
शोध लेख 449 18  
सशोधन 537 4

**शोधक**  
अनुसंधान कर्ता 307 16  
आविष्कर्ता 307 18  
परिष्कारक 537 10  
विशोधक 219.9  
सशोधक 537 12

**शोधक गुब्बारा**  
गुब्बारा यान 1074 5

**शोध कर्ता**  
अनुसंधान कर्ता 307 16

**शोधन**  
घटान कर्म 954 6  
धातु शोधन 219 4  
परिष्करण 537 2  
भाग कर्म 955 13  
विशोधन 219 1  
सशोधन 537 4  
समाकलन 947.8  
स्वच्छीकरण 218 2

**शोधन करना**  
परिष्कार करना 537 7

**शोधन कर्ता**  
विशोधन कर्ता 219 10

**शोधना**  
अनुसंधान करना 307.8  
विशोधित करना 219 6  
संशोधन करना 537.8

**शोध पत्र**  
भूल सुधार पृष्ठ 447.9  
शोध लेख 449.18

**शोधपूर्ण**  
विद्वत्पूर्ण 319 7

**शोध प्रतिशोध**  
आनुवंशिक शत्रुता 708.4

**शोध रचना**  
शोध लेख 449.18

**शोध लेख**  
शोध लेख 449.18 ⇨

**शोधित**  
अनुसंधानित 307 15  
आविष्कृत 307 17  
परिष्कृत 537 9  
भुगतान कृत 534 25  
विशुद्ध 219 7  
सशोधित 537 11  
समाकलित 947 23

**शोधितता**  
विशुद्धता 219 2

**शोधित पेट्रोलियम**  
पेट्रोल 110 18

**शोध्य पत्र**  
प्रूफ शीट 413 26

**शोफ**  
रसीली 166 7  
शोथ 166 8

**शोकर (फ़ाँ)**  
कार ड्राइवर 1079 14

**शोबदा**  
बाज़ीगरी 473 17  
शोबदा 473 26 ⇨

**शोबदागर**  
बाज़ीगर 473 18

**शोबदेबाज़**  
बाज़ीगर 473 18  
शोबदेबाज़ 474.41 ⇨

**शोबदेबाज़ी**  
शोबदेबाज़ी 473 27 ⇨

**शोबा**  
सभाग 937 1

**शो बिजनेस (ऑ)**  
मनोरजन व्यवसाय 470 1

**शोभन**  
कल्याणकारी 710 21  
सुंदर 157 7

**शोभन (दे. शोभायुक्त)**  
सुंदर 157 7

**शोभनीय**  
शोभायुक्त 226 11

**शोभाजन**  
सहजन 13 24

**शोभा**  
काव्य अलंकार 454 1  
काव्य गुण सूची 453 4  
शोभा 226.1 ⇨  
सुंदरता 157 1

**शोभा (दे.)**  
वैभव 226.5

**शोभाधार**  
फ़ैशन 222 11

**शोभान्वयन**  
शोभान्वयन 226 2 ⇨

**शोभान्वित**  
शोभायुक्त 226.11

**शोभान्वित करना**  
शोभान्वित करना 226.8 ⇨

**शोभान्वित होना**  
शोभान्वित होना 226.7 ⇨

**शोभा पुष्प**  
उपवन पुष्प 14 1

**शोभाप्रद**  
शोभायुक्त 226 11

**शोभा बहाना**  
शुभागमन करना 1093 7  
शोभान्वित करना 226 8

**शोभायन**  
शोभान्वयन 226 2

**शोभायमान**  
शोभायुक्त 226 11

**शोभा यात्रा**  
जुलूस 1088 7  
शोभा यात्रा 1088 11 ⇨

**शोभायुक्त**  
शोभायुक्त 226 11 ⇨

**शोभा वृक्ष**  
उपवन नगर वृक्ष 13 1  
शोभा वृक्ष 111 23 ⇨

**शोभाहीन**  
असुंदर 156 3  
शोभाहीन 226 12 ⇨

**शोभाहीनता**  
शोभाहीनता 226 3 ⇨

**शोभाहीन होना**  
शोभाहीन होना 226 9 ⇨

**शोभित**  
अलंकृत 227 4  
उपस्थित 1021 9  
शोभायुक्त 226 11  
सुंदर 157 7

**शोभित होना**  
शोभान्वित होना 226 7

**शोभिनी**  
सुंदर स्त्री 157 2

**शोर**  
आर्तनाद 386 3  
कोलाहल 294.8  
शक्ति 847 1

**शोरगुल**  
कोलाहल 294 8

**शोरदार**  
कोलाहलपूर्ण 294 30

**शोरबा**  
भाजी रसा 201.24  
रसेदार मांस व्यंजन 206.31

**शोरबेदार**  
रसेदार 201.26

**शोर मञ्जना**  
कोलाहल करना 294 18

**शोरशरणाबा**  
आनंदपूर्णता 382.2  
उत्सवपूर्णता 56.2  
कोलाहल 294 8

**शोरा**  
त्रिशार सूची 87.12

**शोरा 87.16 ⇨**

**शोरुम**  
शोरुम 662.6 ⇨

**शोरुम (ऑ)**  
शोरुम 662 6

**शोला**  
अगारा 106 12  
अग्नि ज्वाल, 106 8

**शोशा**  
खड 938 1  
चिगारी 106 11

**शोशा छोड़ना**  
कलह करवाना 708 10

**शोष**  
अवशोषण 1002 10  
कुपोषण 179 4

**शोषक**  
अवशोषक 1002 30  
धूसने वाला 181 58  
शुष्क कर्ता 89 10  
शोषण कर्ता 627 25

**शोषक वर्ग**  
पूँजीवादी वर्ग 688.9

**शोषण**  
अग्नि 106 1  
अवशोषण 1002 10  
आर्थिक शोषण 627 10  
काम बाण सूची 773 17  
चूषण 181 18  
शुष्कन 89 2

**शोषण करना**  
शोषण करना 627 15 ⇨

**शोषण कर्ता**  
शोषण कर्ता 627 25 ⇨

**शोषयिता**  
अवशोषक 1002 30  
शोषण कर्ता 627 25

**शोषित**  
अवशोषित 1002 29  
धुसा [धुसी] 181 68  
शुष्क 89.9  
शोषित 627 24 ⇨

**शोषित वर्ग**  
सर्वहारा वर्ग 688 13

**शोषी**  
अवशोषक 1002.30  
धूसने वाला 181 58  
शुष्क कर्ता 89.10

**शोहदा**  
लफ़ंगा 811.8

**शोहदापाना**  
लफ़ंगापान 811.3

**शोहरत**  
ख्याति 847.1  
प्रशंसा 841.1

**शोहरती**  
ख्यात 847 3

## शौंगेय

<b>शौंगेय</b>	शुगर प्रेम 222 4
बाज गिद्ध 126 29	सुवेशिता 589 4
<b>शौंगिक</b>	स्वाद लोलुपता 275 9
मद्य निर्माता 209 29	<b>शौंगिक</b>
सुन्दार 142 8	अम्ल 87 8
<b>शौंगी</b>	मोती 97 2
गज पिप्पली 281 14	<b>शौंगिय</b>
<b>शौंगाल</b>	मोती 97 2
हिजरी मास सूची 43 5	<b>शौंग</b>
<b>शौंग</b>	वीर्य 130 15
अभिरुचि 400 2	<b>शौंग</b>
इच्छा 359.1	आत्मसुजीविता 170 3
उत्साह 491 1	धर्म लक्षण सूची 737.29
कुव्यसन 812 7	शौंग निवृत्ति 216 7
घटोरपन 181 3	<b>शौंग (आहार)</b>
भोग लिप्सा 363 4	शौंग (आहार) 198 13 ⇨
मद सेवन 211 6	<b>शौंग कर्म</b>
रुचि 400 1	शौंग निवृत्ति 216 7
लालसा 359 5	<b>शौंग निवृत्ति</b>
विलास 363 6	शौंग निवृत्ति 216 7 ⇨
<b>शौंग</b>	<b>शौंग स्थान</b>
शौंग 101 10 ⇨	शौंग स्थान 216 17 ⇨
<b>शौंग</b>	<b>शौंगायार</b>
सुवेशिता 589 4	शौंगालय 216 18
हीवी 469 8	<b>शौंगायार</b>
<b>शौंग (अं)</b>	शौंग निवृत्ति 216 7
आघात 169 2	<b>शौंगालय</b>
मनोघात 354.3	शौंगालय 216 18 ⇨
शौंग 101 10	<b>शौंगालय कर्म</b>
<b>शौंग ऐक्यीर्ष्य (अं)</b>	शौंगालय कर्म 216 23 ⇨
दचका स्मिग 1050 22	<b>शौंगालय कर्मी</b>
<b>शौंगत</b>	शौंगालय कर्मी 216 24 ⇨
वेभव 226 5	<b>शौंगिक</b>
<b>शौंगर (बोलचाल)</b>	विशोधन कर्ता 219 10
दचका स्मिग 1050 22	<b>शौंग (अं)</b>
<b>शौंग से</b>	फिल्म शौंग 472.17
इच्छापूर्वक 359 34	फोटो 405 1
<b>शौंगिया कलाकार</b>	शौंग चित्र 405 4
शौंगिया कलाकार 397.17 ⇨	<b>शौंग लेना</b>
<b>शौंगीन</b>	फोटोग्राफी करना 405 26
तमाशावीन 399 20	<b>शौंग संकलन</b>
फ्रेशनप्रिय 222 19	फिल्म संपादन 472.21
भोजन प्रेमी 181 49	<b>शौंगीर</b>
मद सेवी 211.13	योद्धा 934 15
मद्य रसिक 209 43	<b>शौंगोदनि</b>
मनोरजनप्रिय 469 13	गीतम बुद्ध 793 1
रसिक 837.18	<b>शौंग</b>
विलासी 363 20	शूरीय 731 38
शुगर प्रेमी (पुरुष) 222 5	<b>शौंगक</b>
<b>शौंगीन</b>	ऋषि मुनि सूची 789 17
सुरुधि सपत्र 400 16	<b>शौंगिक</b>
<b>शौंगीन</b>	आखेटिय 252.31
स्वाद लोलुप 275 19	पक्षी आखेटक 252 11
<b>शौंगीनी</b>	<b>शौंग (अं)</b>
फ्रेशनप्रियता 222 13	दुकान 662 1
रसिकता 837 9	यत्रालय 558 12
विलास 363 6	<b>शौंगकीपर (अं)</b>
विलासप्रियता 363 7	दुकानदार 661 11

<b>शौंगकीपिंग (अं)</b>	शौंगकीपिंग (अं)
दुकानदारी 661 10	दुकानदारी 661 10
<b>शौंगीग</b>	<b>शौंगीग</b>
शौंगीग बैग 673.10 ⇨	शौंगीग बैग 673.10 ⇨
<b>शौंगीग बैग (अं)</b>	शौंगीग बैग 673.10
<b>शौंगीग सेंटर (अं)</b>	शौंगीग सेंटर (अं)
डिपार्टमेंटल स्टोर 662 4	डिपार्टमेंटल स्टोर 662 4
बाज़ार 663 1	बाज़ार 663 1
<b>शौंगसेनी</b>	शौंगसेनी
प्राकृत सूची 421.9	प्राकृत सूची 421.9
<b>शौंगि</b>	शौंगि
कृष्ण 771 1	कृष्ण 771 1
बलराम 771 74	बलराम 771 74
वसुदेव 771 86	वसुदेव 771 86
शनि ग्रह 7 8	शनि ग्रह 7 8
<b>शौंग कट (अं)</b>	शौंग कट (अं)
सक्षिप्त मार्ग 1063 4	सक्षिप्त मार्ग 1063 4
<b>शौंग फिल्म (अं)</b>	शौंग फिल्म (अं)
लघु चित्र 472 4	लघु चित्र 472 4
<b>शौंग वेव</b>	शौंग वेव
शौंग वेव 1040 12 ⇨	शौंग वेव 1040 12 ⇨
<b>शौंग वेव (अं)</b>	शौंग वेव (अं)
शौंग वेव 1040 12	शौंग वेव 1040 12
<b>शौंग सर्फिट</b>	शौंग सर्फिट
शौंग सर्फिट 102 6 ⇨	शौंग सर्फिट 102 6 ⇨
<b>शौंग सर्फिट (अं)</b>	शौंग सर्फिट (अं)
शौंग सर्फिट 102 6	शौंग सर्फिट 102 6
<b>शौंग साइट (अं)</b>	शौंग साइट (अं)
निकट दृष्टि 282 6	निकट दृष्टि 282 6
<b>शौंग स्टोरी (अं)</b>	शौंग स्टोरी (अं)
छोटी कहानी 450 10	छोटी कहानी 450 10
<b>शौंगहैंड (अं)</b>	शौंगहैंड (अं)
आशुलेख 412 14	आशुलेख 412 14
<b>शौंगहैंड लिखना</b>	शौंगहैंड लिखना
आशु लेखन करना 412 40	आशु लेखन करना 412 40
<b>शौंग्य</b>	शौंग्य
प्रताप 849 5	प्रताप 849 5
वीरता 396 1	वीरता 396 1
<b>शौंगलिक</b>	शौंगलिक
कास्यकार 680 31	कास्यकार 680 31
<b>शौंगर (अं)</b>	शौंगर (अं)
स्नान फुहारा 221 18	स्नान फुहारा 221 18
<b>शौंगर</b>	शौंगर
पति 803 5	पति 803 5
<b>शौंगरीतुशा शांफुरा (लं)</b>	शौंगरीतुशा शांफुरा (लं)
होली घोस्ट 765 4	होली घोस्ट 765 4
<b>शौंग</b>	शौंग
शरीर 139 1	शरीर 139 1
<b>शौंगशान</b>	शौंगशान
शौंगशान 254 9 ⇨	शौंगशान 254 9 ⇨
<b>शौंगशान कर्मी</b>	शौंगशान कर्मी
घाडाल 254 10	घाडाल 254 10
<b>शौंगशान कालिका</b>	शौंगशान कालिका
काली 776 3	काली 776 3
<b>शौंगशान दीप्ति</b>	शौंगशान दीप्ति
शौंगशान दीप्ति 287 19 ⇨	शौंगशान दीप्ति 287 19 ⇨

<b>शौंगशान निवासिनी</b>	शौंगशान निवासिनी
घाडालनी 254 11	घाडालनी 254 11
<b>शौंगशान निवासी</b>	शौंगशान निवासी
शिव 767.1	शिव 767.1
<b>शौंगशान पाल</b>	शौंगशान पाल
घाडाल 254 10	घाडाल 254 10
<b>शौंगशान वाली</b>	शौंगशान वाली
भूत 786 1	भूत 786 1
<b>शौंगशान वेताल</b>	शौंगशान वेताल
वेताल 786 11	वेताल 786 11
<b>शौंगशान साधक</b>	शौंगशान साधक
शौंगशान साधक 759 15 ⇨	शौंगशान साधक 759 15 ⇨
<b>शौंगशु</b>	शौंगशु
गलमुच्छा 136 2	गलमुच्छा 136 2
दाडी 136 3	दाडी 136 3
दाडी मूछ 136 1	दाडी मूछ 136 1
<b>शौंगशुकर</b>	शौंगशुकर
क्षीर कर्मी 224 2	क्षीर कर्मी 224 2
<b>शौंगशुधर</b>	शौंगशुधर
दकियल 136 8	दकियल 136 8
<b>शौंगशुधारी</b>	शौंगशुधारी
दकियल 136 8	दकियल 136 8
<b>शौंगनित्र (त्र)</b>	शौंगनित्र (त्र)
प्रीज़र 105 10	प्रीज़र 105 10
<b>शौंगयाम</b>	शौंगयाम
काला 289 37	काला 289 37
कृष्ण 771.1	कृष्ण 771.1
नीला 289.49	नीला 289.49
हलका काला 289 39	हलका काला 289 39
हलका काला 289 39	हलका काला 289 39
<b>शौंगयामकंठ</b>	शौंगयामकंठ
नीलकंठ 126 46	नीलकंठ 126 46
मोर 126 68	मोर 126 68
शिव 767 1	शिव 767 1
<b>शौंगयामपूजा</b>	शौंगयामपूजा
शौंगयामा 126 73	शौंगयामा 126 73
<b>शौंगयाम मनोहर</b>	शौंगयाम मनोहर
कृष्ण 771 1	कृष्ण 771 1
<b>शौंगयामल</b>	शौंगयामल
काला 289.37	काला 289.37
पीपल 13.14	पीपल 13.14
हलका काला 289 39	हलका काला 289 39
<b>शौंगयामलता</b>	शौंगयामलता
कालिमा 289 12	कालिमा 289 12
<b>शौंगयामला</b>	शौंगयामला
कस्तुरी 274.15	कस्तुरी 274.15
पार्वती 776 9	पार्वती 776 9
<b>शौंगयाम शिला</b>	शौंगयाम शिला
शातग्राम बटी 938.47	शातग्राम बटी 938.47
<b>शौंगयाम चुंदर</b>	शौंगयाम चुंदर
कृष्ण 771 1	कृष्ण 771 1
<b>शौंगयामांग</b>	शौंगयामांग
बुध ग्रह 7.5	बुध ग्रह 7.5
<b>शौंगयामा</b>	शौंगयामा
अंधेरी रात 48.3	अंधेरी रात 48.3
अमावस रात 48.5	अमावस रात 48.5
काली 776.3	काली 776.3
गुग्गुल 274.18	गुग्गुल 274.18

छाया 774.36  
तुलसी 13.9  
नवयुवती 231.3  
नील निर्यास 220.24  
मादा कबूतर 126.17  
यमुना 20.18  
राधा 771.83  
शीशम 13.22  
श्यामा 126.73 ⇨  
बोडरी 231.5  
सायकाल 47.13  
सुंदर स्त्री 157.2  
**श्यामिक**  
मुद्रण नील 269.52  
**श्यामिका**  
नीलिमा 289.14  
**श्याल**  
साला 724.36  
**श्यालकी**  
साली 724.39  
**श्याला**  
साला 724.36  
**श्यालिका**  
साली 724.39  
**श्याली**  
साली 724.39  
**श्येन**  
गिद्ध 126.26  
पीला 289.54  
बाज़ गिद्ध 126.29  
**श्येनेय**  
जटायु 770.27  
**श्रंथ**  
शिथिलता 1045.6  
**श्रंथन**  
ग्रथि शिथिलन 574.2  
**श्रंथित**  
ग्रथि शिथिलत 574.11  
**श्रद्धधान**  
श्रद्धालु 340.18  
**श्रद्ध**  
श्रद्धालु 340.18  
**श्रद्धाजलि**  
श्राद्ध 253.21  
**श्रद्धा**  
आदर 854.1  
आस्था भाव 752.13  
ऋषि स्त्री सूची 789.25  
धर्मशीलता 735.2  
निष्ठा 826.1  
भक्ति 752.1  
श्रद्धा 340.5 ⇨  
श्रद्धा 774.92 ⇨  
सम्मान 854.3  
**श्रद्धा पात्र**  
श्रद्धेय 340.17  
**श्रद्धापूर्ण**  
श्रद्धालु 340.18

**श्रद्धा भक्ति**  
भक्ति भाव 752.7  
**श्रद्धा योग्य**  
श्रद्धेय 340.17  
**श्रद्धालु**  
दोहदवती 798.41  
भक्त 752.2  
भ्रम विश्वासी 340.15  
श्रद्धालु 340.18 ⇨  
**श्रद्धावान [श्रद्धावती]**  
श्रद्धालु 340.18  
**श्रद्धास्पर्ध**  
श्रद्धेय 340.17  
**श्रद्धाहीन**  
श्रद्धाहीन 341.8 ⇨  
**श्रद्धाहीनता**  
श्रद्धाहीनता 341.2 ⇨  
**श्रद्धा होना**  
श्रद्धा होना 340.10 ⇨  
**श्रद्धेय**  
आदरणीय 854.18  
पूजनीय 751.24  
श्रद्धेय 340.17 ⇨  
**श्रपण**  
उबाल पक्वन 195.35  
**श्रपित**  
उबला [उबली] 91.11  
उबाल पक्व 195.75  
**श्रपिता**  
पनीर जल 193.15  
**श्रम**  
परिश्रम 493.1  
व्यायाम 485.1  
**श्रम (दं.)**  
श्रमिकता 651.18  
**श्रम करना**  
परिश्रम करना 493.6  
**श्रम क्लान्त**  
थका [थकी] 492.15  
**श्रम जल**  
स्वेद 215.3  
**श्रमजीवी**  
श्रमिक 651.19  
**श्रमण**  
जैन साधु 790.24  
तपस्या 756.1  
बौद्ध भिक्षु 790.27  
**श्रमणक**  
जैन साधु 790.24  
**श्रमणा**  
बौद्ध भिक्षुणी 790.28  
शबरी 770.63  
सुंदर स्त्री 157.2  
**श्रमदान**  
श्रमदान 700.9 ⇨  
**श्रमपूर्वक**  
परिश्रमपूर्वक 493.14

**श्रम फल**  
पारिश्रमिक 643.8  
**श्रम बिंदु**  
स्वेद 215.3  
**श्रम विभाग**  
श्रम विभाजन 700.10  
**श्रम विभाजन**  
श्रम विभाजन 700.10 ⇨  
**श्रम शक्ति**  
श्रमिक समष्टि 651.23  
**श्रमशील**  
परिश्रमी 493.9  
**श्रमशीलता**  
परिश्रमशीलता 493.2  
**श्रमसाध्यता**  
कठिनता 519.1  
**श्रम सीकर**  
स्वेद 215.3  
**श्रम स्थान**  
कार्यशाला 654.2  
**श्रमहीन**  
अपरिश्रमी 490.11  
**श्रमहीन आय**  
अश्रम आय 643.3  
**श्रमहीनता**  
अप्रयत्नता 490.15  
**श्रमिक**  
श्रमिक 651.19 ⇨  
**श्रमिक अध्यक्ष**  
श्रमिक अध्यक्ष 652.20 ⇨  
श्रमिक अध्यक्ष 652.21 ⇨  
**श्रमिकता**  
श्रमिकता 651.18 ⇨  
**श्रमिक दल अध्यक्ष**  
श्रमिक अध्यक्ष 652.21  
**श्रमिक दलाल**  
श्रमिक दलाल 650.4 ⇨  
**श्रमिक वर्ग**  
सर्वहारा वर्ग 688.13  
**श्रमिक विभाग अध्यक्ष**  
श्रमिक अध्यक्ष 652.20  
**श्रमिक शक्ति**  
श्रमिक समष्टि 651.23  
**श्रमिक संघ**  
श्रमिक संघ 692.19 ⇨  
**श्रमिक समष्टि**  
श्रमिक समष्टि 651.23 ⇨  
**श्रमिकों द्वारा कामबंदी**  
हड़ताल 902.11  
**श्रमी**  
परिश्रमी 493.9  
**श्रवण**  
कान 142.1  
नवधा भक्ति सूची 752.6  
श्रवण 293.2 ⇨  
श्रवण अनुभूति 293.1  
श्रवण कुमार 770.64  
छाव 1032.1

**श्रवण अनुभूति**  
श्रवण अनुभूति 293.1 ⇨  
**श्रवण अयोग्य**  
अश्रोतव्य 401.13  
**श्रवण कर्म**  
श्रवण 293.2  
**श्रवण कुमार**  
कौंवर यात्री 1089.6  
श्रवण कुमार 770.64 ⇨  
**श्रवण गुहा**  
कान छिद्र 142.2  
**श्रवण विषय**  
छानि 294.1  
**श्रवण शक्ति**  
श्रवण अनुभूति 293.1  
**श्रवणा**  
नक्षत्र सूची 4.6  
**श्रवणीय**  
श्रवणीय 293.12 ⇨  
श्रोतव्य 400.15  
**श्रवणेंद्रिय**  
कान 142.1  
श्रवण अनुभूति 293.1  
**श्रवणेंद्रिय (कान)**  
ज्ञानेंद्रिय सूची 268.6  
**श्रवित**  
ऋवित 1032.26  
**श्रविष्ठाभू**  
बुध ग्रह 7.5  
**श्रव्य**  
श्रव्य 397.35 ⇨  
श्रुतिगम्य 293.17  
श्रोतव्य 400.15  
**श्रव्य कला**  
श्रव्य कला 397.9 ⇨  
**श्रव्यता**  
श्रुतिगम्यता 293.6  
**श्रव्य नाटक**  
रेडियो नाटक 463.22  
**श्रांत**  
थका [थकी] 492.15  
शांत 372.9  
**श्रांति**  
थकान 492.4  
**श्राद्ध**  
पुण्य दिवस 58.3  
श्राद्ध 253.21 ⇨  
**श्राद्ध कर्ता**  
श्राद्ध कर्ता 253.41 ⇨  
**श्राद्ध देव**  
ब्राह्मण 731.13  
यमराज 256.1  
वैवस्वत मनु 788.5  
**श्राद्ध देवता**  
विश्वेदेव 777.9  
**श्राद्ध पक्ष**  
पितृ पक्ष 45.4

## श्राद्ध पिंड

श्राद्ध पिंड  
श्राद्ध पिंड 253.23 ⇨  
श्राद्ध भोक्ता  
पितृ 253.26  
श्राप  
शाप 713.1  
श्राव  
श्रावण 293.2  
श्रावक  
जैन साधु 790.24  
शिष्य 323.24  
श्रोता 293.16  
श्रावणी  
जैन धर्मावलंबी 737.2  
श्रावण  
भारतीय मास सूची 43.6  
वर्षा काल 54.1  
श्रावण 293.2  
श्रावण अनुभूति 293.1  
श्रावण कुमार 770.64  
श्रावण 43.11 ⇨  
श्रावण पूर्णिमा  
रक्षा बंधन 57.20  
श्रावण शुक्ल तृतीया  
झूला तीज 57.8  
श्रावण शुक्ल पंचमी  
नाग पंचमी 57.18  
श्रावणी  
रक्षा बंधन 57.20  
श्रावस्ती  
लव राजधानी 770.53  
श्राविका  
बौद्ध भिक्षुणी 790.28  
श्रावित  
कथित 430.16  
श्रावितता  
श्रोता 293.16  
श्रावी  
श्रोता 293.16  
श्राव्य  
श्राव्य 397.35  
श्रुतिगम्य 293.17  
श्रोतव्य 400.15  
श्राव्यता  
श्रुतिगम्यता 293.6  
श्रिक करना  
सिकोरुना 980.18  
श्रिक होना  
सिकुरुना 980.17  
श्रित  
आधारित 1019.17  
उबाल पक्व 195.75  
परिपाचित 195.65  
श्रिय  
सौभाग्य 260.17  
श्रियण  
उबाल पक्व 195.35  
परिपाचन 195.19

श्रिया  
लक्ष्मी 775.1  
श्री  
अधिकार 897.1  
ईश्वर विभूति सूची 764.4  
उन्नति 534.1  
उपकरण 558.7  
ख्याति 847.1  
चंद्र कला सूची 8.4  
चीड़ 13.7  
त्रिवर्ग 761.20  
दीप्ति 287.16  
धन संपत्ति 624.10  
पत्रारभ संशोधन आदि सूची 444.41  
पुरुष उपाधि सूची 856.2  
प्रकाश 287.1  
प्रशसा 841.1  
भभूत 106.17  
महत्त्व 852.1  
माथा बिंदी 225.13  
राग रागिनी सूची 457.24  
रोली 225.17  
लक्ष्मी 775.1  
वेश 589.1  
शुभ लाभ 646.3  
शोभा 226.1  
षड्भाग सूची 457.22  
संपत्ति 624.1  
सफलता 512.1  
समृद्धि 626.1  
सरस्वती 775.8  
सुंदरता 157.1  
स्वच्छता 218.1  
श्रीकंट  
शिव 767.1  
श्रीक  
धनाढ्य 626.14  
समृद्ध 626.11  
सौभाग्यशाली 260.33  
श्रीकर  
रक्त कमल 14.6  
विष्णु 768.1  
श्रीकान्त  
विष्णु 768.1  
श्रीकाम  
ख्याति इच्छुक 847.5  
श्रीकीर्ति  
शत्रुघ्न. पत्नी 770.59  
श्री कृष्ण  
कृष्ण 771.1  
श्रीखंड  
चंदन 274.20  
श्रीखंड 203.42 ⇨  
श्रीखंड शैल  
मलयाचल 17.13  
श्री गणेश  
शुभ आरंभ 521.2

श्री गणेशाय नमः  
शुभ आरंभ उक्ति सूची 521.9  
श्रीगर्भ  
तलवार 924.7  
श्री घन  
गीतम बुद्ध 793.1  
श्री चक्र  
श्री चक्र 407.18 ⇨  
श्री चरणेणु  
पत्रारभ संशोधन आदि सूची 444.41  
श्रीदामा  
सुदामा 771.98  
श्री द्रुम  
साल 13.26  
श्रीधर  
विष्णु 768.1  
शोभायुक्त 226.11  
श्री नंदन  
कामदेव 773.12  
श्रीनगर  
जम्मू और कश्मीर राजधानी 28.30  
श्रीनाथ  
अष्ट कृष्ण सूची 771.3  
विष्णु 768.1  
श्री निकेत  
लक्ष्मी निवास 775.3  
स्वर्ण 85.4  
श्री निकेतन  
लक्ष्मी: निवास 775.3  
श्रीनितंबा  
राधा 771.83  
श्री निवास  
लक्ष्मी: निवास 775.3  
विष्णु 768.1  
श्रीपति  
धनाढ्य व्यक्ति 626.5  
विष्णु 768.1  
श्री पद्म  
राजमार्ग 1063.39  
श्रीपर्ण  
कमल 14.4  
श्रीपाल  
योगक्षेम कर्ता 710.26  
श्री पिष्ट  
गंधा विरोज 1012.10  
श्रीपुष्प  
श्वेत कमल 14.7  
श्रीपूर्णता  
वैभव 226.5  
श्रीप्रव [श्रीप्रवा]  
कल्याणकारी 710.21  
धनप्रद 628.27  
श्रीप्रवा  
लक्ष्मी 775.1  
श्रीप्रिय  
हरताल 92.13  
श्री फल  
ऑबला 189.6  
घन 628.1  
बित्त्व 190.27  
शरीफा 190.32  
श्रीभक्त  
मधुपर्क 750.11  
श्री भद्र  
श्री चक्र 407.18  
श्री भ्राता  
घोड़ा 127.35  
श्री मंजरी  
तुलसी 13.9  
श्रीमंत [श्रीमंती]  
धनाढ्य 626.14  
श्रीमंत वर्ग  
धनाढ्य जन 626.4  
श्रीमती  
पत्नी 803.6  
राधा 771.83  
विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.6  
स्त्री उपाधि सूची 856.4  
श्रीमद  
घन अभिमान 858.2  
श्रीमद्भागवद्गीता  
गीता 740.14  
श्रीमद् भागवत  
कृष्णकथा. ग्रंथ सूची 771.21  
श्रीमान  
आप 316.19  
कुबेर 779.4  
गौरवपूर्ण 849.18  
पति 803.5  
पुरुष उपाधि सूची 856.2  
महान 839.8  
विष्णु 768.1  
शोभायुक्त 226.11  
स्वामी 621.2  
श्रीमान [श्रीमती]  
धनाढ्य 626.14  
पत्रारभ संशोधन आदि सूची 444.41  
श्री मार्ग  
राजमार्ग 1063.39  
श्रीमाल  
विष्णु. माला 768.10  
श्री मुख  
वेद 740.22  
सुंदर मुखाकृति 158.2  
श्री मूर्ति  
विष्णु मूर्ति 746.6  
श्रीयुत  
पुरुष उपाधि सूची 856.2  
श्रीरंग  
विष्णु 768.1  
श्री राम  
राम 770.1  
श्रीलंका  
दशरथ: सप्तम्य सूची 27.4  
नास्त उपमहाद्वीप देश क्षेत्र सूची 27.6  
श्रीलंका 27.17 ⇨



श्रीलंकाई  
श्रीलंकाई 27.30 ⇨  
श्रीलंका: राजधानी  
श्रीलंका: राजधानी 27.18 ⇨  
श्रील  
गीरवपूर्ण 849.18  
घनाढ्य 626.14  
महान 839.8  
वैभवशाली 226.15  
शोभायुक्त 226.11  
हलील 733.17  
सुंदर 157.7  
श्रीवत्स  
विष्णु 768.1  
विष्णु: वक्ष भैवरी 768.4  
संघ 864.16  
श्रीवत्सक  
विष्णु वक्ष भैवरी 768.4  
श्रीवत्सल  
विष्णु 768.1  
श्रीवत्साक  
विष्णु 768.1  
श्रीवर  
विष्णु 768.1  
श्री वराह  
वराह अवतार 769.34  
श्रीवर्धन  
विष्णु 768.1  
श्री वल्लभ  
घनाढ्य 626.14  
श्रीवल्लभ  
विष्णु 768.1  
श्रीवास  
कमल 14.4  
श्री विद्या  
दुर्गा 776.7  
ललिता देवी 774.80  
श्री वृक्ष  
पीपल 13.14  
श्री वृद्धि  
श्री वृद्धि 774.93 ⇨  
श्रीवैद्य  
तारपीन 290.24  
श्रीवैद्य  
यानिस 290.15  
श्री वैष्णव संप्रदाय  
रामानुजी संप्रदाय 737.42  
श्रीश  
विष्णु 768.1  
श्री श्री  
मठाधीश 744.1  
श्री श्री 1008  
पुरुष उपाधि सूची 858.2  
मठाधीश 744.1  
श्री श्री 108  
पुरुष उपाधि सूची 858.2  
मठाधीश 744.1

श्री श्री 8  
मठाधीश 744.1  
श्री संप्रदाय  
चार वैष्णव संप्रदाय सूची 737.51  
श्रीसवा  
रात 48.1  
श्री सूक्त  
सूक्त सूची 741.15  
श्रीहत  
शोभाहीन 226.12  
श्रीहीन  
शोभाहीन 226.12  
श्रीहीनता  
शोभाहीनता 226.3  
श्रुत  
ज्ञात 305.29  
श्रुत 293.13 ⇨  
श्रुतकीर्ति  
ख्यात 847.3  
श्रुतकीर्ति 770.65 ⇨  
श्रुत ग्रंथ  
अपीरुषेय धर्मग्रंथ 738.3  
श्रुत निष्क्रिय  
शिक्षा शुल्क 665.5  
श्रुतार्थि  
श्रुतार्थि 789.11 ⇨  
श्रुत लेख  
श्रुतिलेख 412.16  
श्रुतानुश्रुति  
अपुष्ट समाचार 440.5  
श्रुति  
अपुष्ट समाचार 440.5  
अपीरुषेय धर्मग्रंथ 738.3  
कर्ण भुजा 968.31  
कान 142.1  
ख्याति 847.1  
घार: उपमान सूची 948.24  
ज्ञान 305.1  
लोक कथा 450.7  
वेद 740.22  
भ्रवण 293.2  
संगीत श्रुति 459.14  
श्रुतिकट्टु  
श्रुतिकट्टु 294.26 ⇨  
श्रुतिकीर्ति  
श्रुतकीर्ति 770.65  
श्रुतिगम्य  
श्रुतिगम्य 293.17 ⇨  
श्रुतिगम्यता  
श्रुतिगम्यता 293.6 ⇨  
श्रुतिगम्य होना  
श्रुतिगम्य होना 293.11 ⇨  
श्रुतिगोचरता  
श्रुतिगम्यता 293.6  
श्रुतिधर  
कान 142.1  
धर्म ग्रंथज्ञ 738.2  
विशेषज्ञ 305.36

श्रुति निदर्शन  
वेद वाक्य 740.23  
श्रुतिप्रिय  
श्रुतिप्रिय 294.25 ⇨  
श्रुतिभाल  
ब्रह्मा 766.1  
श्रुति मधुर  
श्रुतिप्रिय 294.25  
श्रुति मूलक  
वेदीय 740.62  
श्रुतिलेख  
श्रुतिलेख 412.16 ⇨  
श्रुति वर्जित  
अवेदीय 740.63  
श्रुति विषय  
ध्वनि 294.1  
श्रुति सागर  
विष्णु 768.1  
श्रुव  
चम्मघ 681.16  
यज्ञ 753.1  
श्रुवा  
कलछा 681.1  
काठ कलछी 681.6  
यज्ञ चमस 753.23  
श्रुविक  
श्रुविक सख्यक 949.31  
श्रुविकी संख्यक  
श्रुविकी संख्यक 949.31 ⇨  
श्रुविकी संख्या  
श्रुविकी संख्या 949.15 ⇨  
श्रुणी  
करघनी 228.7  
कोटि 936.1  
धर्म 735.1  
पंक्ति 691.4  
पर्वत श्रेणी 16.9  
लक्ष्मी 228.38  
शिक्षालय कक्षा 321.13  
शुखला 569.26  
श्रेणी 322.25 ⇨  
समाज वर्ग 688.7  
सौकला 809.23  
सीडी 613.6  
श्रेणीकरण  
कोटिकरण 936.5  
श्रेणीकरणगीय  
कोटिकरणगीय 936.12  
श्रेणीकृत  
कोटिकृत 936.13  
श्रेणी क्रम से  
कोटि अनुसार 936.15  
श्रेणी पद्य  
छतदार मार्ग 1063.24  
श्रेणीपाद  
गणतंत्र 881.16  
श्रेणीबद्ध  
एकतापूर्ण 698.9

गुलबद 885.38  
पंक्तिबद्ध 667.15  
श्रेणी बद्धन  
पंक्ति बद्धन 667.3  
श्रेणीय  
कोटीय 936.7  
श्रेणी विभाजन  
कोटिकरण 936.5  
श्रेय  
उत्तम 313.11  
कल्याणकारी 710.21  
धर्म 735.1  
पसद 400.11  
पुण्य 814.1  
संगत 438.6  
सौभाग्य 260.17  
श्रेयस्कर  
उत्तमतर 313.12  
श्रेयस्कर [श्रेयस्कर]  
सोचक 400.12  
श्रेयांस नाम्  
तीर्थकर सूची 792.2  
श्रेष्ठ  
उत्तम 313.13  
ज्येष्ठ 229.25  
परिपूर्ण 313.14  
प्रथम स्थानीय 707.11  
प्रधान 852.10  
महान 839.8  
शिव 767.1  
श्रेष्ठ आश्रम  
गृहस्थ आश्रम 235.1  
श्रेष्ठ आश्रमी  
गृहस्थ आश्रमी 235.11  
श्रेष्ठ काष्ठ  
सागीन 13.25  
श्रेष्ठ ग्रंथि  
श्रेष्ठ ग्रंथि 352.7 ⇨  
श्रेष्ठ जन  
महान जन 839.2  
श्रेष्ठता  
उत्तमतमता 313.3  
प्रधानता 852.3  
महानता 839.1  
श्रेष्ठ पुरुष  
महापुरुष 839.3  
श्रेष्ठ प्रजनन  
वरीय प्रजनन 243.6  
श्रेष्ठमन्यक  
सुरधिमन्यक 400.21  
श्रेष्ठमन्यता  
श्रेष्ठ ग्रंथि 352.7  
सुरधिमन्यता 400.7  
श्रेष्ठ रोजर  
श्रेष्ठ रोजर 452.28 ⇨  
श्रेष्ठ स्त्री  
महान स्त्री 839.4

## श्रेष्ठा

श्रेष्ठा  
महान स्त्री 839.4  
श्रेष्ठाश्रमी  
गृहस्थ आश्रमी 235 11  
श्रेष्ठि  
व्यापारी वैश्य 731 26  
श्रेष्ठी  
व्यापार सघ अध्यक्ष 692 18  
सेठ 826 8  
श्रेणिक  
कोटीय 936 7  
श्रेकी संख्यक 949 31  
श्रेणि  
कटि 147 7  
श्रेणी  
कटि 147 7  
मध्य भाग 996.3  
श्रेणी चक्र 133 16  
श्रेणी चक्र  
श्रेणी चक्र 133.16 ⇨  
श्रेणी बिंब  
स्त्री कमरबंद 571 9  
श्रेणीय  
नितंबीय 148.17  
श्रेणीसूत्र  
करघनी 228 7  
श्रोतव्य  
श्रोतव्य 400.15 ⇨  
श्रोता  
कथा श्रोता 749.20  
श्रोता 293 16 ⇨  
श्रोता 399.6 ⇨  
संबोधित 430 25  
श्रोता गण  
कथा श्रोता 749 20  
कला उपभोक्ता गण 399 3  
श्रोतागार  
दर्शक दीर्घा 471 4  
प्रेक्षागार 471 1  
सभागार 695.1  
श्रोताः गृह  
श्रोता गृह 601.3 ⇨  
श्रोताः नाम  
श्रोताः नाम 315 8 ⇨  
श्रोतार्थ सस्वर पठन  
सस्वर वाचन 399 8  
श्रोत्र  
कान 142 1  
श्रोत्रहीन  
बहरा [बहरी] 164 7  
श्रोत्रिय  
वेदज्ञ 761 29  
वेदज्ञ ब्राह्मण 731 18  
श्रीत्री  
वेदज्ञ 761 29  
वेदज्ञ ब्राह्मण 731 18  
श्रीणिक  
नितंबीय 148.17

श्रीत  
वेदीय 740 62  
श्रीतश्रव  
शिशुपाल 771 91  
श्रीत सूत्र  
श्रीत सूत्र 740 53 ⇨  
श्रीत्र  
श्रवणीय 293 12  
श्रीम्य  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
श्लथ  
ढीला [ढीली] 1015.12  
थका [थकी] 492 15  
शिशिल 1045 13  
स्फूर्तिहीन 492 14  
श्लथ्यांग  
शिशिलकाय 159 15  
श्लाघनीय  
प्रशंसनीय 841 30  
श्लाघा  
आत्मप्रशसा 842 1  
प्रशसा 841 1  
श्लाघापूर्य  
आत्मप्रशंसापूर्ण 842 11  
श्लाघित  
प्रशंसित 841 29  
श्लाघ्य  
प्रशंसनीय 841 30  
श्लिष्ट  
अनेकार्थी 426.36  
द्व्यर्थी 426 37  
संयुक्त 1010 22  
संलग्न 1010 18  
श्लिष्ट शब्द  
अनेकार्थक शब्द 426 20  
श्लिष्टि  
धिपकन 1012 1  
सटापन 31.2  
श्लिष्टांगिक  
द्वयर्थक उक्ति 426.22  
श्लील  
वेशित 589 25  
श्लील 733 17 ⇨  
सभ्य 733 13  
श्लीलता  
श्लीलता 733.6 ⇨  
श्लेष  
आलिंगन 237 8  
आसक्ति 365 1  
काव्य गुण सूची 453 4  
संयुक्ति 1010.7  
संलग्नता 1010 2  
सटापन 31.2  
श्लेष अर्थ  
द्वयर्थ 426.21  
श्लेषण  
धिपकाई 1012 2  
संयोजन 1010.10

सरलेषण 427 20  
श्लेषयुक्त  
धिपधिपा [धिपधिपी] 1012.13  
श्लेषव्य  
धेपय्य 1012 3  
श्लेषहीन  
एकार्थी 426 35  
श्लेषार्थक  
अनेकार्थी 426 36  
श्लेषित  
आलेपित 292.13  
श्लेषी  
गोद 1012 7  
संयुक्त कर्ता 1010 23  
संलग्न कर्ता 1010 20  
संश्लेष 1012 6  
श्लेषोक्ति  
द्वयर्थक उक्ति 426 22  
श्लेष्य  
कफ 215 16  
देह मल सूची 215 2  
श्लेष्य शोक  
रसीली 166 7  
श्लेष्या  
कफ 215 16  
श्लेष्याम  
कोलोइड 1008 11  
श्लोक  
अनुष्टुभ 452 8  
पूजा गीत सूची 749 26  
मंत्र 741 1  
वैदिक छंद 452 6  
श्लोक 452.17 ⇨  
श्लोक  
भेङ्गिया 127.77  
श्लोकात्  
कीला 144.6  
श्लोकात्  
चाडाल 254 10  
श्लोकात्  
हिंस्र जीव 121 14  
श्लोकात्  
विष्णु 122 31  
श्लोकात्  
सास 724 7  
श्लोकात्  
सांस चलना 245 17  
श्लोकात्  
पंचपिता सूची 717 6  
श्लोकात्  
ससुर 724.6  
श्लोकात्  
ससुराल 601.9  
श्लोकात्  
कुत्ता 127 71  
श्लोकात्  
कुत्ताः काटा 918.11

श्लान निद्रा  
श्लान निद्रा 266.4 ⇨  
श्लानी  
मादा कुत्ता 127 72  
श्लानीन्माद  
श्लानीन्माद 354 13 ⇨  
श्लान्य  
भैरव गण 767 32  
श्लान्य  
आह 386 4  
दमा 163 18  
प्राण तत्त्व 245 1  
श्लान्य 245 4 ⇨  
हॉफ 245 14  
श्लान्य अनुशासन  
प्राणायाम 245 11  
श्लान्यग्रह  
नाक 142 3  
श्लान्य ग्रहण  
श्लान्य ग्रहण 245 5 ⇨  
श्लान्य टैंक  
श्लान्य टैंक 483.16 ⇨  
श्लान्य तंत्र  
श्लान्य तंत्र 145 14 ⇨  
श्लान्य त्यक्त  
श्लान्य त्यक्त 245.24 ⇨  
श्लान्य त्याग  
श्लान्य त्याग 245.6 ⇨  
श्लान्य नली  
श्लान्य नली 483 17 ⇨  
श्लान्य वाहिका 145 15  
श्लान्य नलीः डक्कन  
अपिकठिका 145 7  
श्लान्य प्रणाली  
श्लान्य तंत्र 145.14  
श्लान्ययुक्त  
श्लान्ययुक्त 245.23 ⇨  
श्लान्य रंध  
श्लान्य रंध 145 16 ⇨  
श्लान्यरुद्ध  
श्लान्यरुद्ध 245.25  
श्लान्य रोध  
श्लान्यरोध 245 9  
श्लान्य रोधक  
श्लान्यरोधक 245.26  
श्लान्य बाध  
शुबिर बाध 461.20  
श्लान्यवान [श्लान्यवती]  
श्लान्ययुक्त 245.23  
श्लान्य वाहिका  
श्लान्य वाहिका 145.15 ⇨  
श्लान्य वाहिनी  
श्लान्य वाहिका 145.15  
श्लान्य विधान  
अपिकठिका 145.7  
श्लान्यः शुभाशुभ कथन  
सरोया शास्त्र 262.16

श्यास साधन  
श्यास साधन 245.10 ⇨  
श्यास साधना  
सौस साधना 245 19  
श्यासहीन  
हॉफता [हॉफती] 245 28  
श्यासहीनता  
हॉफ 245.14  
श्यासांत  
मृत्यु 249.1  
श्यासांतः मार्ग  
शरीर नी रम 138 2  
श्यासावरुद्ध  
श्यासावरुद्ध 245 25 ⇨  
श्यासावरोध  
श्यासावरोध 245.9 ⇨  
श्यासावरोधक  
श्यासावरोधक 245 26 ⇨  
श्यासावरोध मृत्यु  
श्यासावरोध मृत्यु 249.8 ⇨  
श्यासावरोध होना  
श्यासावरोध होना 245.18 ⇨  
श्यासी  
वायु 85 1  
श्वेत  
उज्ज्वल 218 37  
रुधिरहीन 131 18  
श्वेत 289 65 ⇨  
श्वेत कमल  
श्वेत कमल 14 7 ⇨  
श्वेत कुच्छ  
सफेद दाग 165 13  
श्वेतकेतु  
गीतम बुद्ध 793 1  
श्वेत गरुड  
हंस 126 76  
श्वेत छत्र  
राजछत्र 408 13  
श्वेत जाति  
श्वेत जाति 730.7 ⇨  
श्वेत जीरक  
जीरा 281 18  
श्वेत टंकण  
सुहागा 281 33  
श्वेतता  
श्वेतिमा 289.19  
श्वेत धानु  
खड्गिया मिट्टी 100 13  
श्वेत ध्वज  
युद्ध विराम ध्वजा 408.8  
श्वेतमानु  
चंद्रमा 8.2  
श्वेत भिक्षु  
श्वेतांबर साधु 790 26  
श्वेत नदिरा  
सफेद बाइन 209.17  
श्वेतपथ  
शुक्र ग्रह 7.9

श्वेत वराह  
वराह अवतार 769 34  
श्वेत वस्त्र  
श्वेत वस्त्र 519 23 ⇨  
श्वेतवासा  
सन्यासी 790 11  
श्वेत वेश  
श्वेतांबर वेश 589 9  
श्वेत श्याम इतर सभी रंग  
वर्णाली रंग 289 8  
श्वेत श्याम रंग और रंगत  
अवर्णाली रंग 289 10  
श्वेतहय  
इंद्र 773 5  
श्वेतांबर  
श्वेत वस्त्र 578 23  
श्वेतांबर 137.4 ⇨  
श्वेतांबर वेश 589 9  
श्वेतांबर वेश  
श्वेतांबर वेश 589 9 ⇨  
श्वेतांबर साधु  
श्वेतांबर साधु 790 26 ⇨  
श्वेता  
कोक्री 629 10  
कोक्री 124 15  
फिटकरी 281.25  
श्वेतामिष  
सफेद मांस 206 13  
श्वेताम्ब  
अर्जुन 771 36  
श्वेताम्बतर उपनिषद  
उपनिषद सूची 740 13  
श्वेतिमा  
श्वेतिमा 289 19 ⇨  
श्वेतोदर  
कुबेर 779.4

---

षड्

षड्  
नपुंसक 238.18  
सौं 127 12  
हिजडा 238 5  
षड्बाली  
तलेया 18 8  
षड्  
नपुंसक 238 18  
शिव 767.1  
षड्बा  
हिजडन 238.6  
षड्-  
छह 948 27  
षड्क  
छठा [छठी] 948.92  
छहगुना 949.47  
छहः समुदाय 687.8  
षड्कर्ण  
षड्मुज 969.9

षट्कर्म  
तंत्र क्रिया 758 3  
षट्कर्मा  
तंत्रवादी 737.37  
तंत्र साधक 758 4  
षट्कूटा शैरवी  
भैरवी सूची 776 14  
षट्कृतिका  
कृतिका 774 30  
षट्कोण  
इंद्र वज्र 928 8  
षट्पाश्वीय 997 17  
षड्मुज 969 9  
षट्कलेशा  
षड्कलेशा 761.18  
षट्खंड  
छह खंडीय 938 66  
षट्खंडीय  
छह खंडीय 938 56  
षट्पक्ष  
षट्पक्ष 757 7 ⇨  
षट्पिघति  
षट्पाश्वीय 997 17  
षट्पय  
कामदेव धनुष 773 15  
षट्पत्री  
षड् दर्शन 760 27  
षट्ताल  
षट्ताल 458.44 ⇨  
षट्पद  
छप्पय 452 14  
षट्पदपय्य  
कामदेव धनुष 773.15  
षट्पदा  
छप्पय 452.14  
षट्पाटीय  
छह खंडीय 938 56  
षट्पाप  
भ्रमर 122 33  
षट्पाश्वीय  
षट्पाश्वीय 997 17 ⇨  
षट्पाश्व  
षड्फलक 977.22  
षट्शास्त्र  
षड् दर्शन 760.27  
षड्ग  
छहगुना 949 47  
छहः समुदाय 687 8  
वेदांग 740 40  
षड्गजित  
विष्णु 768.1  
षड्गिनी  
सेना 932.1  
षड्हर मंत्र  
मंत्र सूची 741 4  
षड्ज  
षड्ज स्वर 459.7

षडभिज्ञ  
गीतम बुद्ध 793 1  
षडानन  
स्कद 773 50  
षडानीक  
षडफलक 977 22  
षडाम्नाय  
षड् दर्शन 760.27  
षड्-  
छह 948 27  
षड्गुण  
छहगुना 949.47  
षड्ज  
षड्ज स्वर 459 7  
सप्तक स्वर सूची 459.6  
षड्ज स्वर  
षड्ज स्वर 459.7 ⇨  
षड् दर्शन  
षड् दर्शन 760 27  
षड्फलक  
षड्फलक 977 22  
षड्भागीय  
छह खंडीय 938 56  
षड्मुज  
षड्मुज 969 9  
षड्मुजा  
दुर्गा 776 7  
षड्मुज 969.9  
षड्चंत्र  
षड्चंत्र 827 8  
षड्चंत्र करना  
षड्चंत्र करना 827.15  
षड्चंत्रकारी  
षड्चंत्र कर्ता 827.25  
षड्चंत्र रचना  
षड्चंत्र करना 827.15  
षड्घ  
षड् स्वाद 275 2  
षड्घस  
स्वादिस 275.20  
षड्गाग  
खटाराग 747 4  
षड् राग  
षड् राग 457.21 ⇨  
षड्गाग सूची  
षड्गाग सूची 457.22 ⇨  
षड्गिपु  
षड्घिकार 812 4  
षड्घर्ग  
षड्घिकार 812.4  
षड्घिकार  
षड्घिकार 812.4 ⇨  
षड्घिकार सूची  
षड्घिकार सूची 812.5 ⇨  
षड् स्वाद  
षड् स्वाद 275.2 ⇨

## षड्वलेश

**षड्वलेश**  
 षड्वलेश 761.18 ⇨  
**षड्वलेश सूची**  
 षड्वलेश सूची 761.19 ⇨  
**षड्वचक्र सूची**  
 षड्वचक्र सूची 757.8 ⇨  
**षड् दर्शन**  
 षड् दर्शन 760.27 ⇨  
**षड्फलक**  
 षड्फलक 977.22 ⇨  
**षड्भुज**  
 षड्भुज 969.9 ⇨  
**षड्यंत्र**  
 षड्यंत्र 827.8 ⇨  
**षड्यंत्र करना**  
 षड्यंत्र करना 827.15 ⇨  
**षड्यंत्र कर्ता**  
 षड्यंत्र कर्ता 827.25 ⇨  
**षड् स्वाद सूची**  
 षड् स्वाद सूची 275.3 ⇨  
**षण्मातुर**  
 स्कंद 773.50  
**षण्मातुका**  
 कृतिका 774.30  
**षण्मासिक**  
 षण्मासिक 71.21 ⇨  
**षण्मुख**  
 बोधिसत्व सूची 793.16  
 स्कंद 773.50  
**षट्क**  
 छहः समुदाय 687.8  
**षट्**  
 साठ 948.66  
 साठ वर्ष 42.24  
**षट्टिक**  
 साठवौं [साठवीं] 948.102  
**षट्टि पुंति**  
 हीरक जयंती 58.7  
**षट्**  
 छठा [छठी] 948.92  
 षष्ठी 44.12  
**षट् [षष्ठी]**  
 छठा [छठी] 948.92  
**षट्क**  
 छठा [छठी] 948.92  
**षट् कारक**  
 संबंध कारक 425.26  
**षट्म**  
 छठा [छठी] 948.92  
**षट्ठांश**  
 चक्र छठा भाग 960.4  
**षष्ठी**  
 छठी 774.35  
 छठी 798.12  
 दुर्गा 778.7  
 देवसेना 774.47  
 षष्ठी 44.12 ⇨

**षष्ठी पूजा**  
 छठी 798.12  
**षष्ठीमिय**  
 स्कंद 773.50  
**षाडव**  
 गायन 460.16  
 गीत 451.19  
 राग जाति सूची 1 457.14  
 षड् स्वाद 275.2  
 षाडव राग 457.16  
**षाडव राग**  
 षाडव राग 457.16 ⇨  
**षादतर**  
 षादतर सप्तक 459.5  
**षादतर सप्तक**  
 षादतर सप्तक 459.5 ⇨  
**षोडश**  
 सोलह 948.49  
**षोडश कर्म**  
 सोलह सरकार 798.2  
**षोडश कला**  
 चंद्र कला 8.3  
**षोडश पूजन**  
 षोडशोपचार 750.3  
**षोडश भुजा**  
 दुर्गा 776.7  
**षोडश लव प्रणाली**  
 षोडश लव प्रणाली 950.8 ⇨  
**षोडश शुंगार**  
 सोलह सिंगार 222.2  
**षोडश संस्कार**  
 सोलह संस्कार 798.2  
**षोडशांशु**  
 शुक्र ग्रह 7.9  
**षोडशी**  
 षोडशी 231.5 ⇨  
**षोडशोपचार**  
 षोडशोपचार 750.3 ⇨  
**षोडशोपचार सूची**  
 षोडशोपचार सूची 750.4 ⇨

## स

**सं. (बीज रूप)**  
 सबत्सर 42.1  
**संकट**  
 कष्ट 392.1  
 जोखिम 519.5  
 भौतिक संकट 909.3  
 रोग 163.1  
 विघ्न 1047.12  
 संकट 909.1 ⇨  
**संकट आना**  
 संकट आना 909.13 ⇨  
**संकट काल**  
 संकट काल 909.7 ⇨  
**संकटकालीन आचरण**  
 आपात्कालीन आचरण 808.3

**संकट कालीन मार्ग**  
 गुप्त मार्ग 1065.2  
**संकटग्रस्त**  
 संकटग्रस्त 909.19 ⇨  
**संकट धौध**  
 संकट धौध 57.28 ⇨  
**संकट दूर करना**  
 संकट दूर करना 910.6 ⇨  
**संकट नाराक**  
 संकट मोचक 910.10  
**संकट नाराज**  
 संकट मोचन 910.1  
**संकटनाराज यंत्र**  
 संकटनाराज यंत्र 758.26 ⇨  
**संकट निवारण**  
 संकट मोचन 910.1  
**संकट न्यीतना**  
 संकट लेना 909.12  
**संकटपूर्ण**  
 जोखिमपूर्ण 519.20  
 संकटात्मक 909.21  
**संकटपूर्ण कार्य करना**  
 संकट लेना 909.12  
**संकटप्रद**  
 संकटप्रद 909.20 ⇨  
**संकटप्रद वस्तु**  
 संकटप्रद वस्तु 909.8 ⇨  
**संकट बुलाना**  
 संकट लेना 909.12  
**संकट मिटाना**  
 संकट दूर करना 910.6  
**संकटमुक्त**  
 संकटमुक्त 910.9 ⇨  
**संकट में पड़ना**  
 संकट में पड़ना 909.11 ⇨  
**संकट में फैसना**  
 संकट में पड़ना 909.11  
**संकट मोचक**  
 संकट मोचक 910.10 ⇨  
**संकट मोचक युक्ति**  
 संकट मोचक युक्ति 910.2 ⇨  
**संकट मोचन**  
 प्रतिरक्षा 908.2  
**संकटमोचन**  
 संकट मोचक 910.10  
**संकट मोचन**  
 संकट मोचन 910.1 ⇨  
**संकटमोचन**  
 हनुमान 781.19  
**संकट मोचन करना**  
 संकट दूर करना 910.6  
**संकट लेना**  
 संकट लेना 909.12 ⇨  
**संकटः संकेत**  
 संकटः संकेत 909.9 ⇨  
**संकट हरण**  
 संकट मोचन 910.1

**संकट हर्ता**  
 संकट मोचक 910.10  
**संकटहीन**  
 सुरक्षित 908.27  
**संकटहीनता**  
 सुरक्षा 908.4  
**संकट होना**  
 संकट आना 909.13  
**संकटात्मक**  
 संकटात्मक 909.21 ⇨  
**संकटापन्न**  
 संकटग्रस्त 909.19  
**संकटोत्तीर्ण**  
 संकटमुक्त 910.9  
**संकथा**  
 कथा कृति 450.3  
**संकथित**  
 परिभाषित 317.17  
 वर्णित 449.24  
**संकर**  
 खोटा [खोटी] 98.13  
 नीर क्षीर मिश्रण 1008.3  
 मिश्रण 1008.1  
 रंग संकर 730.23  
 वर्ण संकर 731.40  
**संकरक**  
 सम्मिश्रक 1008.27  
**संकरज**  
 वर्ण संकर 731.40  
**संकर जातीय**  
 वर्ण संकर 731.40  
**संकरण**  
 संकरण 243.7 ⇨  
 सम्मिश्रण 1008.12  
**संकरता**  
 धातु खोटा 98.5  
**संकर राग**  
 संकर राग 457.19 ⇨  
**संकरीत**  
 सूर्य संक्रांति 5.25  
**संकरीयत**  
 सूर्य संक्रांति 5.25  
**संकरा [संकरी]**  
 संकीर्ण 980.29  
 संकुचित 980.26  
**संकराना**  
 संकीर्ण करना 980.19  
 संकुचित करना 980.16  
**संकरापन**  
 संकीर्णता 980.11  
**संकरा कावका**  
 कुदाल 559.7  
**संकरा मुंहः गिलास**  
 संकरा मुंहः गिलास 684.11 ⇨  
**संकरा रास्ता**  
 संकीर्ण मार्ग 1083.44  
**संकरा रेलपथ**  
 नैरो गेज 1068.15

संकराध्य	संग्रह करना 669.18	संकल्प सिद्धि	संकुचित करना
खड्गधर 127.32	संकलनीय	सफलता 512.1	संकुचित करना 980.16 ⇨
संकरित	संग्रहणीय 669.20	संकल्पहीन	संकुचित जाति भावना
सम्मिश्रित 1008.26	संकल्पना	विचलनशील 501 12	जातिवाद 884.32
संकारी	सकल्प करना 500.6	संकल्पित	संकुचित ज्ञान
वर्ण संकर 731 40	संकाशिका	कूटकृत 98 14	संकुचित ज्ञान 306.3 ⇨
संकारी खाकी	अलबम 669 7	परिकल्पित 520.18	संकुचितता
संकारी खाड़ी 24.9 ⇨	सकलन पुस्तक 446 23	संकल्पित 500 10 ⇨	जातिवाद 884 32
संकारी घाटी	संकल्पित	संकल्पीय	सकीर्णता 980 11
दर्रा 16 15	एकत्रित 667 12	संकल्पीय 500.9 ⇨	संकुचित होना
संकर्ष	संग्रहित 669.19	संका	संकुचित होना 980.15 ⇨
आकर्षण 1050 10	संकासित्र	संदेह 341 3	संकुल
संकर्षक	अबाकस 950 14	संकीर्ण	अव्यवस्थित समूह 690 4
निष्कर्षक 83 15	संकल्प	संकीर्ण 980.29 ⇨	गहन 1004 16
रोधक 400 12	दृढ प्रतिज्ञा 339 18	संकीर्णहृदय 818.10	जूड़ा बंधी जटा 137.9
संकर्षण	संकल्प 500.1 ⇨	संकुचित 980.26	संकीर्ण 980.29
आकर्षण 1050 10	संकल्पक	संकीर्ण करना	संकुचित 980.26
घतुयूह विष्णु अश सूची 768.15	आयोजक 655 19	संकीर्ण करना 980 19 ⇨	सघन 1004 15
बलराम 771 74	संकल्प कर्ता 500 11	संकीर्ण जल मार्ग	सघन 81.15
यान जुताई 1079 1	संकल्प करना	संकीर्ण जल मार्ग 1063.45 ⇨	संकुलता
संकुचन 980 9	संकल्प करना 500 6 ⇨	संकीर्णता	सघनता 81.2
संकुचन 980 10	संकल्प कर्ता	अधमता 840 1	सघनता 1004.5
संकर्षी	संकल्प कर्ता 500 11 ⇨	मताघता 343 11	संकुलन
संकुचन कारी 980 27	संकल्पता:	संकीर्णता 980 11 ⇨	सघनन 81.3
संकल	संकल्पपूर्वक 500 16	संकीर्ण प्रायश्चित्त	संकुलित
समुच्चय 686 1	संकल्प धारण	अतरीप 26 10	सघन 81 15
सौकला 609 23	संकल्पन	संकीर्ण मार्ग	संकुल्य
संकलक	प्रसस्करण 527 7	संकीर्ण मार्ग 1063.44 ⇨	नहर 23 3
संग्रह कर्ता 669 21	रचना कर्म 527 1	संकीर्ण राग	संकुट
संकलन	संकल्पन 500 2 ⇨	संकर राग 457 19	आकर्षित 1050 28
एकत्रण 667 1	संकल्पना	संकीर्णहृदय	तना [तनी] 1013.26
जोड़ कर्म 954 2	आरंभिक अवस्था सूची 994.23	संकीर्णहृदय 818 10 ⇨	संकेद्र
विविध संग्रह 669 3	काव्य विंब 454 11	संकीर्तन	संकेद्रीय 971.25
संकलन पुस्तक 446 23	निर्धारित करना 328.9	कीर्तन 749 30	संकेद्रक
संग्रह 669 2	प्रतिज्ञा करना 339.29	प्रशंसन 841.4	संकेद्रीय 971.25
संग्रहण 669 1	संकल्प करना 500.6	संकीर्तित	संकेद्रण
सहिता 740.47	संकल्पपूर्ण	प्रशंसित 841 29	संपुजन 288 4
सम्मिश्रण 1008 12	दुर्बिधाहीन 500 13	संकुचक	संकेद्रता
संकलन कर्ता	संकल्प पूर्ति	संकुचन कारी 980 27	संकेद्रता 971.11 ⇨
संग्रह कर्ता 669.21	संकल्प पूर्ति 500.3 ⇨	संकुचन	संकेद्र वृत्त
संकलनकार	संकल्पपूर्वक	सिचन 392.9	संकेद्र चक्र 973.3
संकलनकार 446.33 ⇨	संकल्पपूर्वक 500 16 ⇨	संकुचन 980 9	संकेद्रिक
संग्रह कर्ता 669.21	संकल्प अंग	संकुचित	संकेद्रीय 971.25
संकलन पंजी	विचलन 501 4	संकुचित 980 26	संकेद्रित
अलबम 669 7	संकल्प लेना	संकुचक	संपुजित 288.10
संकलन पुस्तक	संकल्प करना 500 6	संकुचन कारी 980.27	संकेद्रीय
संकलन पुस्तक 446.23 ⇨	संकल्प शक्ति	संकुचन	संकेद्रीय 971.25 ⇨
संकलन वृत्ति	आत्मविश्वास 487.8	सिचन 120 2	संकेद्रीयता
परिग्रह वृत्ति 359.9	संकल्पशील	मुकुलन 120 1	संकेद्रता 971.11
संकलनशील	अविचल 500 15	संकुचन 980.9 ⇨	संकेत
परिग्रही 359.33	आत्मविश्वासी 487.26	संकुचन कारी	अंग पुद्रा 464.33
संकलनशीलता	दृढप्रतिज्ञा 339 45	संकुचन कारी 980.27 ⇨	कूट संकेत 823.5
परिग्रह वृत्ति 359.9	संकल्पशीलता	संकुचित	व्यू 465.9
संकलन स्थान	अविचलता 500.5	मुकुलित 120.8	चिह्न 407.1
संग्रहालय 669.8	आत्मविश्वास 487.8	संकीर्ण 980.29	दिशा संकेत 29.25
संकलना	संकल्प संभव	संकीर्णहृदय 818.10	निदेश 347.2
जोड़ करना 954 11	कामदेव 773.12	संकुचित 980.26 ⇨	पहेली संकेत 333.16
बोधना 1013 17		सिकुका [सिकुकी] 980.28	पुट 1008.6

## संकेत आवाहन

पूर्व सूचना 441.5  
 शर्त 339.11  
 संकेत 422.4 ⇌  
 सादृश्य आवास 309.4  
 सिगनल 1067.13  
 सुभाव 332.5  
 सुराग 867.1  
**संकेत आवाहन**  
 संकेत आवाहन 1055.3 ⇌  
**संकेत आवाहित**  
 संकेत आवाहित 1055.14 ⇌  
**संकेतक**  
 इंडेक्स 993.8  
**संकेत करना**  
 संकेत करना 422.6 ⇌  
**संकेतन**  
 संकेत आवाहन 1055.3  
**संकेतनी**  
 तर्जनी 150.16  
**संकेत भाषा**  
 अंगुली मुद्रा 464.34  
 कूट भाषा 823.3  
 संकेत भाषा 422.3 ⇌  
**संकेत मात्र**  
 पुट मात्र 1008.25  
**संकेत बचन**  
 सूत्र वाक्य 424.18  
**संकेत शब्द**  
 कूट शब्द 823.4  
 क्यू 465.9  
**संकेत स्थल**  
 अभिसार स्थल 237.2  
**संकेतिका**  
 इंडेक्स 993.8  
**संकेतित**  
 संकेत आवाहित 1055.14  
**संकेतना**  
 संवरण करना 667.11  
**संकोच**  
 भोजन संकोच 182.3  
 लज्जा 845.1  
 लज्जाशीलता 845.2  
 संकोच 845.5 ⇌  
 सिकुचन 980.10  
 हिचक 501.3  
**संकोचक**  
 संकोची 845.14  
**संकोच करना**  
 संकोच करना 845.9 ⇌  
**संकोचन**  
 सिकुचन 980.9  
 सिकुचन 980.10  
**संकोच न करना**  
 संकोच न करना 848.6 ⇌  
**संकोचशील**  
 संकोची 845.14  
**संकोचहीन**  
 संकोचहीन 846.7 ⇌

**संकोचहीनता:**  
 संकोचहीनतः 846.9 ⇌  
**संकोचहीनता: (वे.)**  
 अवरोधहीनतः 1049.23  
**संकोचहीनता**  
 संकोचहीनता 846.2 ⇌  
**संकोची**  
 झेंपू 845.13  
 भोजन संकोची 182.14  
 लज्जाशील 845.11  
 संकोची 845.14 ⇌  
**संकोप**  
 अति क्रोध 373.2  
 अपवृद्धि 979.5  
 क्रोध 373.1  
 भौतिक संकट 909.3  
 रुष्टि 374.2  
 रोग विस्तार 183.12  
**संक्रंद**  
 रुदन 386.1  
**संक्रंदन**  
 इंद्र 773.5  
 रुदन 386.1  
 ललकार 373.14  
**संक्रम**  
 निकट आगमन 1093.4  
 सहयात्रा 1088.1  
**संक्रमण**  
 पार गमन 1097.1  
 प्रवेशन 1094.3  
 रोग संक्रमण 169.8  
 संक्रमण 1091.3 ⇌  
**संक्रमण करना**  
 संक्रमण करना 1091.7 ⇌  
**संक्रमण काल**  
 संक्रमण काल 1091.4 ⇌  
**संक्रमणशील**  
 संक्रमणशील 1091.15 ⇌  
**संक्रमण स्थल**  
 संक्रमण स्थल 1091.5 ⇌  
**संक्रमित**  
 परिवर्तित 532.16  
 संक्रमित 1091.14 ⇌  
 संक्रमित 169.13 ⇌  
**संक्रमित होना**  
 संक्रमित होना 169.11 ⇌  
**संक्रमिता**  
 प्रवेश कर्ता 1094.26  
**संक्रांत**  
 आगत 1093.11  
 संक्रमित 1091.14  
**संक्रांति**  
 अयनांत 5.19  
 निकट आगमन 1093.4  
 प्रवेश 1094.1  
 सूर्य संक्रांति 5.25  
**संक्रांति काल**  
 संक्रमण काल 1091.4

**संक्रांतिद्वय चांद्र मास**  
 क्षय मास 43.20  
**संक्रांतिहीन चांद्र मास**  
 मल मास 43.19  
**संक्राम**  
 संक्रमण 1091.3  
**संक्रामक**  
 संक्रमणशील 1091.15  
 संक्रामक 169.14 ⇌  
**संक्रामक रोग**  
 संक्रामक रोग 163.4 ⇌  
**संक्रामी**  
 संक्रमणशील 1091.15  
**संक्रिया**  
 तकनीक 514.4  
**संक्रिया पुस्तक**  
 प्रक्रिया पुस्तक 446.22  
**संक्रिया**  
 लीला 506.8  
**संक्रुद्ध**  
 क्रुद्ध 373.28  
**संक्रोध**  
 क्रोधोन्माद 354.5  
**संक्लान्त**  
 म्लान 120.11  
**संक्लेश**  
 क्लेश 761.16  
**संक्षिप्त**  
 घटाया [घटाई] 954.14  
 लघुकाय 154.28  
 संकीर्ण 980.29  
 संक्षिप्त 980.24 ⇌  
 सारांशित 449.30  
 सिकुचा [सिकुची] 980.28  
**संक्षिप्तकरण**  
 सारांशन 449.13  
**संक्षिप्त करना**  
 संक्षिप्त करना 980.14 ⇌  
**संक्षिप्त कर्ता**  
 संक्षिप्त कर्ता 980.25 ⇌  
**संक्षिप्त टीका**  
 टिप्पणी 427.8  
**संक्षिप्तता**  
 अल्प कालीनता 38.3  
 बारीकी 965.9  
**संक्षिप्त नाम**  
 घर का नाम 315.5  
 प्रथमाक्षरी नाम 980.8  
**संक्षिप्त मार्ग**  
 संक्षिप्त मार्ग 1063.4 ⇌  
**संक्षिप्त रूप**  
 सारांश 449.12  
**संक्षिप्त लिपि**  
 आशुलेख 412.14  
**संक्षिप्त विवरण**  
 सारांश 449.12  
**संक्षिप्त व्याख्या**  
 टिप्पणी 427.8

**संक्षिप्त शब्द**  
 संक्षिप्त शब्द 980.6 ⇌  
**संक्षिप्तीकरण**  
 संक्षेपण 980.5  
 सारांशन 449.13  
**संशुद्ध**  
 ऊँची लहरों वाला 1040.33  
**संशेष**  
 सारांश 449.12  
**संशेषक**  
 संक्षिप्त कर्ता 980.25  
 सारांश कर्ता 449.31  
**संशेष करना**  
 संक्षिप्त करना 980.14  
**संशेष कर्ता**  
 संक्षिप्त कर्ता 980.25  
 सारांश कर्ता 449.31  
**संशेषण**  
 संशेषण 980.5 ⇌  
 सारांशन 449.13  
**संशेषतः**  
 सारांशतः 449.33  
**संशेष में**  
 सारांश. उक्ति सूची 449.34  
**संशेष में**  
 सारांशतः 449.33  
**संशेषित**  
 संचालित (शस्त्र) 930.18  
**संश्लेषा**  
 संक्षिप्त कर्ता 980.25  
 सारांश कर्ता 449.31  
**संश्लेष**  
 उद्देश 377.3  
 समुद्री तूफान 85.9  
**संख्या**  
 घक्का: हत्था 596.25  
**संख्य**  
 युद्ध 905.4  
**-संख्यक**  
 संख्यायुक्त 948.84  
**संख्यक**  
 संख्या विषयक 948.83  
**संख्यांतर संख्या**  
 एकांतर संख्या 949.7  
**संख्या**  
 कुल जोड़ 954.5  
 कुल संख्या 949.2  
 जनसंख्या 616.8  
 निश्चित संख्या 949.3  
 पूर्ण संख्या 949.11  
 मात्रा 946.3  
 शब्द: वचन 425.44  
 संख्या 948.1 ⇌  
 संख्या अंक 948.3  
**संख्या अंक**  
 संख्या अंक 948.3 ⇌  
**संख्या क्रम**  
 सूची क्रम 991.7

संख्यात  
उल्लिखित 437 13  
गिना [गिनी] 950.12

संख्यातिग  
असंख्य 944.8

संख्यातीत  
असंख्य 944 8

संख्यातीततः  
असंख्यत 944 13

संख्यातीतता  
असंख्यता 944 3

संख्यातीत संख्या  
असीम संख्या 949.6

संख्यान  
अंक गणित 953 1  
आकलन कर्म 947 6  
गणना 950 1  
गणना कर्म 950 11  
दृश्यता 282 9  
मापन 958 2  
मूल्यांकन 664 4  
राशि 686 2  
विचारण 330 5

संख्यानक  
टैलर 630 14

संख्या पद  
संख्या अंक 948 3

संख्या में  
मात्रा में 946 22

संख्यायुक्त  
संख्यायुक्त 948.84 ⇨

संख्या बाधक शब्द  
शब्द वचन 425 44

संख्यावान [संख्यावती]  
संख्यायुक्त 948 84

संख्या विषयक  
संख्या विषयक 948.83 ⇨

संख्या स्थान  
संख्या स्थान 948.7 ⇨

संख्याहीन  
असंख्य 944.8

संख्याहीनता  
असंख्यता 944 3

संख्येय  
संख्येय 942.22

संग  
आसक्ति 365.1  
उपस्थिति 1021 2  
घनिष्ठता 704 13  
घट्टान 99.14  
घनुर्जुज पाषाण-पटल 990.20  
निकटता 31.1  
परिधितता 704.1  
पाषाण 99 1  
पाषाण पटल 990.19  
प्रिय संयोग 389.3  
प्रेम 368.1  
भूत बाधा 759.7

मित्रता 705 1  
मिलन 389.1  
संगति 696.1  
संग संग 696.26  
संपर्क 703 5  
संबंध 715 1  
सहयात्रा 1088 1  
सहयोग 700 1  
सहितत 1006 3

-संग  
सहित. प्रत्यय सूची 1006.5

संग अंबाज्ञ  
डेलवॉस 926.6

संगख्यार  
शुतुरमुर्ग 126 72

संग जराहत  
प्लास्टर आफ पेरिस 100 19

संगठक  
संस्थापक 693.10

संगठन  
एकता स्थापना 698 2  
एकीभवन 698 4  
संघटन 545 1  
संस्था 692 1  
संस्थापना 693 1  
समाज 688 1

संगठन इकाई  
संस्था 692.1

संगठन कर्ता  
संस्थापक 693.10

संगठन कर्म  
एकता स्थापना 698.2

संगठनन  
एकता स्थापना 698.2

संगठनहीन  
एकताहीन 699 14

संगठनहीनता  
एकताहीनता 699 1

संगठनीय  
संस्थानीय 692.31

संगठित  
एकतापूर्ण 698.9  
संघटित 545.26  
संस्थापित 693.9

संगठिततः  
एकतापूर्वक 696 12

संगठितता  
एकता 698.1

संगठित न होना  
एका न होना 699 10

संगठित होना  
एका होना 698.7

संगणक  
कंप्यूटर 951.1  
गणित 950 13  
परिगणक 950.20

संगणन  
अभिकलन कर्म 953.8

गणना कर्म 950.11

संगणना  
अभिकलन कर्म 953.8  
गणना 950.1  
गणना कर्म 950.11

संगणित  
गिना [गिनी] 950.12

संगणित्र  
कंप्यूटर 951 1  
गणित्र 950.13

संगत  
अड्डा 696 10  
अवसरानुकूल 70.14  
कुरती मैदान 482 11  
गायक दल 480 19  
तर्कपूर्ण 325.21  
नट मंडली 473.13  
मंडली 691 5  
मठ 745 7  
मित्रता 705.1  
मित्र मंडली 705.4  
वाद्य संगत 461 3  
विनियोज्य 438 7  
संगत 438 6 ⇨  
संगति 696.1  
संयुक्त 1010.22  
सत्संग 749.21  
समागत 694.31  
साधारण सभा 692 28  
साधु मंडली 691.8  
सामंजस्यपूर्ण 702.6

संगत करना  
संगत करना 461.104 ⇨  
संगत करना 696 19 ⇨

संगत तर्क  
सुतर्क 325.2

संगतता  
अवसरानुकूलता 70.2  
संगतता 438.1 ⇨  
सामंजस्य 702 1  
रूग्ण न करना  
पूथक रहना 697.9

संगतरा  
नारंगी 190 22  
संतरा 190.34

संगत होना  
संगत होना 438.3 ⇨

संगति  
एकीभवन 698 4  
मित्रता 705.1  
संगति 696.1 ⇨  
संगमन 21.21  
संदर्भ 437.3  
समागमन 694.17  
सामंजस्य 702.1

संगतिपूर्णता  
सामंजस्य 702.1

संगति प्रभाव  
संगति प्रभाव 696.5 ⇨

संगतिया  
दमसाफ़ 460.26  
पुरुष मित्र 705.2  
वादक 461.2  
संगतिया 461.4 ⇨  
संगी 696.2

संगतिहीन  
असंगत 439.5

संगतिहीनता  
एकांतता 697.3  
संदर्भहीनता 439.3

संगती  
पुरुष मित्र 705.2  
संगतिया 461.4  
संगी 696.2

संग त्याग  
विरक्ति 366.2

संगदिल  
कठोरहृदय 835 11  
कठोरहृदय (प्रेमपात्र) 369.8

संगदिली  
निर्दयता 835.2

संग बसरा  
संग बसरा 99.8 ⇨

संगवार  
पथरीली धूमि 987.3

संगव  
आलिंगन 237.8  
एकता 698.1  
एकीभवन 698.4  
गंगा-यमुना संगम 20 13  
नदी संगम 21.20  
मार्ग संगम 1098.12  
मित्रता 705.1  
मिलन 389.1  
मिश्रण 1008 1  
संघ 692.13  
संघर्ष 703.5  
संयुक्ति 1010 7  
संस्था 692.1  
सभा 694.1  
सामंजस्य 702 1  
सामंजस्य स्थापना 702.2

संगम काल  
दिन-रातः संधि काल 47.15

संगमन  
एकीभवन 698.4  
संगमन 21.21 ⇨  
संयुजन 1010.9  
समागमन 694.17  
समिश्रण 1008.12

संगमः बीच की धूमि  
बीक 25.7

संग मरमर  
संग मरमर 99.9 ⇨

## संगम होना

संगम होना  
संगम होना 21.32 ⇨  
संगमित  
मिला [मिली] 389.8  
समागत 694.31  
संग मुखदार  
मुदासख 92.12  
संग भूसा  
काला संग मरमर 99.10  
संग यशब  
यशब 96.23  
संगर  
अनुबंध 339.1  
खाई 15.8  
मोरघा 907.10  
युद्ध 905.4  
विष 177.2  
संकट 909.1  
सघर्ष 905.1  
सीमा परकोटा 604.19  
सैनिक खात 604.21  
संगरा  
कूप ढक्कन 19.7  
लीयर 1062.3  
संग रेजा  
केकरू 938.35  
संगलक  
द्रावक 80.7  
संगलक तत्त्व  
संगलक तत्त्व 565.12 ⇨  
संगलन  
द्रवण 80.2  
धातु संगलन 565.11  
संगलन पात्र  
संगलन पात्र 565.16 ⇨  
संगलन पात्र सूची  
संगलन पात्र सूची 565.17 ⇨  
संगलित  
द्रवित 80.6  
संगलित 565.28 ⇨  
संगलित करना  
संगलित करना 565.24 ⇨  
संगव  
संगव बेला 47.8  
संगव बेला  
संगव बेला 47.8 ⇨  
संगव मुसुर्त  
संगव बेला 47.8  
संग संग  
संग संग 696.26 ⇨  
संगसाज  
मूर्तिकार 406.18  
संग साथ्य  
पार्श्वचरत 696.28  
मित्रता 705.1  
व्यवहार 703.2  
संगति 696.1  
संग संग 696.26

संग साथ्य हीन होना  
अकेला होना 697.10  
संग साथ्य होना  
सगत करना 696.19  
संगसी  
सँकसा 560.7  
संगाली  
पुरुष मित्र 705.2  
संगी 696.2  
संगावन  
सहगायन 460.29  
संगाव  
वाद प्रस्तुति 324.8  
संगिन  
स्त्री मित्र 705.3  
संगिनी  
पत्नी 803.6  
स्त्री मित्र 705.3  
संगिस्तान  
पथरीली भूमि 987.3  
संगी  
आदी 836.9  
कायुक 237.14  
जोड़ीदार 687.24  
पति 803.5  
पाषाणीय 99.15  
पुरुष मित्र 705.2  
मित्र वत्सल 705.27  
सगी 696.2 ⇨  
सहयात्री 1088.2  
संगी [संगिनी]  
सहकर्मी 700.22  
संगीत  
नृत्य गान 462.1  
संगीत 457.1 ⇨  
संगीत कृति 457.6  
संगीत अभ्यास  
स्वर साधन 460.9  
संगीतक  
ओपेरा 463.10  
वाद्य समूह 461.7  
संगीत कर्म  
संगीत कर्म 460.1 ⇨  
संगीत कला  
कला सूची 397.12  
संगीतकलाहीन  
असम्बन्ध 734.14  
संगीतकार  
संगीत निर्देशक 460.3  
संगीत कृति  
संगीत कृति 457.6 ⇨  
संगीत गति  
संगीत गति 458.7 ⇨  
संगीत गोष्ठी  
संगीत नृत्य सभा 468.4  
संगीत ग्राम  
सप्ताक 459.3

संगीत घराना  
संगीत घराना 457.10 ⇨  
संगीतज्ञ  
संगीतज्ञ 457.3 ⇨  
संगीत निर्देशक 460.3  
संगीत तर्ज़  
संगीत तर्ज़ 458.14 ⇨  
संगीत देना  
संगीत निर्देशन करना 460.40  
संगीत निर्देशक  
संगीत निर्देशक 460.3 ⇨  
संगीत निर्देशन  
संगीत निर्देशन 460.2 ⇨  
संगीत निर्देशन करना  
संगीत निर्देशन करना 460.40 ⇨  
संगीत नृत्य  
काबुकी 463.12  
नृत्य गान 462.1  
संगीत नृत्य सभा  
संगीत नृत्य सभा 468.4 ⇨  
संगीत प्रेमी  
किन्नर 778.1  
संगीतबद्ध करना  
संगीत निर्देशन करना 460.40  
संगीत भवन  
संगीत शाला 471.10  
संगीतमय  
संगीतमय 457.43 ⇨  
संगीत मात्रा  
संगीत मात्रा 458.21 ⇨  
संगीत रचना  
बंदिश 458.20  
संगीत कृति 457.6  
संगीत सृजन 460.6  
संगीत रचैता  
संगीत सृजन कर्ता 460.7  
संगीत वर्ण  
संगीत वर्ण 459.23 ⇨  
संगीत वर्ण सूची  
संगीत वर्ण सूची 459.24 ⇨  
संगीत विशारद  
तुंबुरु 778.7  
संगीत वेशम  
संगीत शाला 471.10  
संगीत शाला  
संगीत शाला 471.10 ⇨  
संगीत शास्त्र  
संगीत शास्त्र 457.2 ⇨  
संगीत श्रुति  
संगीत श्रुति 459.14 ⇨  
संगीत संघालक  
संगीत संघालक 460.4 ⇨  
संगीत संघालन करना  
संगीत संघालन करना 460.41 ⇨  
संगीत सभा  
संगीत नृत्य सभा 468.4  
संगीत साथ्य  
स्वर साधन 460.9

संगीत सृजन  
संगीत सृजन 460.6 ⇨  
संगीत सृजन कर्ता  
संगीत सृजन कर्ता 460.7 ⇨  
संगीत स्वर  
संगीत स्वर 459.1 ⇨  
संगीतहीन  
संगीतहीन 457.44 ⇨  
संगीतात्मक  
संगीतमय 457.43  
संगीतात्मकता  
सुरीलापन 459.34  
संगीति  
धर्म सभा 694.3  
परिचर्चा 436.3  
विचार गोष्ठी 694.7  
संगीत 457.1  
संगीन  
दडनीय 870.22  
बेयोनट 927.6  
संकटात्मक 909.21  
संगी संगीती  
संगी 696.2  
संगी साथ्यिन  
स्त्री मित्र 705.3  
संगी साथी  
पुरुष मित्र 705.2  
मित्र मंडली 705.4  
सगी 696.2  
सहयात्री 1088.2  
संगीसाथीहीन  
मित्रहीन 705.29  
संगी साथी होना  
सगत करना 696.19  
संगीहीन  
एकाकी 697.14  
संगीहीनता  
एकांतता 697.3  
संगुच्छन  
गुच्छन 667.2  
संगुच्छित  
गुच्छित 667.14  
संगुप्त  
गुप्त 824.20  
संगुप्ति  
सुरक्षा 908.4  
संगुहीत  
संग्रहित 669.19  
संगे ज़र  
कसौटी पत्थर 566.9  
संगे पुरबत  
क्र. पत्थर 254.19  
संगे बुनियाद  
नीयः पत्थर 807.13  
संगे यमन  
माणिक 96.22  
संगोष्ठी  
अध्ययन गोष्ठी 694.6



- गोष्ठी 694 4  
**संग्रथक**  
 संग्रथक 573 16 ⇨  
**संग्रथन**  
 गैठाई 577 5  
 संग्रथन 573 1 ⇨  
**संग्रथन कर्ता**  
 संग्रथक 573 16  
**संग्रथित**  
 जिन्दबद्ध 418 14  
 संग्रथित 573 15 ⇨  
**संग्रथित करना**  
 संग्रथित करना 573 10 ⇨  
**संग्रथित**  
 संग्रहित 669 19  
**संग्रह**  
 परिग्रह वृत्ति 359 9  
 भंडार 670 3  
 सकलन पुरतक 446 23  
 संग्रह 669 2 ⇨  
 समुच्चय 686 1  
**संग्रह करना**  
 संग्रह करना 669 18 ⇨  
**संग्रह कर्ता**  
 सकलनकार 446 33  
 संग्रह कर्ता 669 21 ⇨  
**संग्रहकार**  
 संग्रह कर्ता 669 21  
**संग्रहण**  
 जोड़ कर्म 954 2  
 परिग्रह वृत्ति 359 9  
 भंडारण 670 1  
 संग्रहण 669 1 ⇨  
 सराशिकरण 667 4  
 सवर्धन 979 7  
**संग्रहण (द्वै.)**  
 एकत्रण 667 1  
**संग्रहणीय**  
 संग्रहणीय 669 20 ⇨  
**संग्रह पाल**  
 संग्रहालय अध्यक्ष 669 9  
**संग्रह पुस्तक**  
 कोश पुस्तक 446 9  
**संग्रह वृत्ति**  
 परिग्रह वृत्ति 359 9  
**संग्रहागार भाटक**  
 भंडार प्रभार 670 7  
**संग्रहालय**  
 अजायब घर 669 16  
 भंडार घर 670.5  
 संग्रहालय 669.8 ⇨  
**संग्रहालय अध्यक्ष**  
 संग्रहालय अध्यक्ष 669 9 ⇨  
**संग्रहिका**  
 अलबन 669.7  
**संग्रहित**  
 एकत्रित 667 12  
 जुका [जुकी] 954.13  
 भंडारित 670 25  
 संग्रहित 669 19 ⇨  
 संराशित 667 16  
**संग्रही**  
 एकत्रक 667 13  
 संग्रह कर्ता 669 21  
**संग्रहीता**  
 एकत्रक 667 13  
**संग्राम**  
 युद्ध 905 4  
**संग्राम पटह**  
 युद्ध डका 907 21  
**संग्रामी**  
 योद्धा 934 15  
 संग्रामशील 905 32  
 सैनिक 934 1  
**संग्रामीय**  
 यौद्धिक 905 33  
**संग्राह**  
 मुट्ठी 150 8  
**संग्राहक**  
 एकत्रक 667 13  
 मॉग कर्ता 656 2  
 सकलनकार 446 33  
**संग्राहागार**  
 संग्रहालय 669 8  
**संग्राही**  
 एकत्रक 667 13  
 संग्रह कर्ता 669 21  
**संग्राह्य**  
 संग्रहणीय 669.20  
**संग्र**  
 त्रिरत्न सूची 737 10  
 दल 691 1  
 धर्म संग्रह 737 8  
 मडली 691 5  
 मठ 745.7  
 राजनीतिक दल 885 15  
 राज्य संग्रह 881 8  
 संग्रह 692 13 ⇨  
 संस्था 692 1  
 समूह 690.1  
**संग्र अध्यक्ष**  
 व्यापार संग्रह अध्यक्ष 692 18  
 संग्रह अध्यक्ष 692 14 ⇨  
**संग्रधर्या**  
 दलधर्या 696 11  
**संग्रणीविता**  
 दलधर्या 696.11  
**संग्रजीवी**  
 दलधर 696 12  
**संग्रट**  
 संग्रटना 545.2  
**संग्रटक**  
 संग्रटक 545.3 ⇨  
**संग्रटक अंश**  
 संग्रटक 545.3  
**संग्रटक विद्युजन**  
 विघटन 544 1  
**संग्रटक संयुजन**  
 संग्रटन 545 1  
**संग्रटन**  
 रचना कर्म 527 1  
 संग्रह 692 13  
 संग्रटन 545 1 ⇨  
 समागमन 694 17  
**संग्रटन करना**  
 संग्रटन करना 545.21 ⇨  
**संग्रटना**  
 काव्य प्रवृत्ति 453 13  
 रचना विचार 527.8  
 संग्रटना 545.2 ⇨  
 स्वर विन्यास 460 13  
**संग्रटित**  
 एकत्रित 667 12  
 विन्यस्त 527 22  
 संग्रहित 669 19  
 संग्रटित 545 26 ⇨  
 सघन 81 15  
**संग्रटीय**  
 राशि विषयक 686 21  
**संग्रट्ट**  
 टक्कर 1051 16  
 मुठभेड़ 915 2  
**संग्रट्टना**  
 अभिसार 237 1  
 आसिगन 237 8  
**संग्रठन**  
 एकता स्थापना 698 2  
**संग्रठिततः**  
 एकतापूर्वक 698 12  
**संग्रधन**  
 सघन 81 15  
**संग्रधनन**  
 सघनन 81 3  
**संग्रधनित**  
 श्रमिन् 105.23  
**संग्रधनित अवस्था**  
 सघन अवस्था 79.8  
**संग्रधनित करना**  
 सघन करना 81 9  
**संग्रधपति**  
 राष्ट्रपति 882.2  
**संग्रध पुरुष**  
 शीद मठाधीश 744.39  
**संग्रधद्व**  
 एकतापूर्ण 698.9  
**संग्रधद्वता**  
 एकता 698.1  
**संग्रध भेद**  
 एकता भंग 699.2  
**संग्रध राज्य**  
 राज्य संग्रध 881.8  
**संग्रधर्ष**  
 प्रतियोगिता 707.2  
 प्रतिरोध 915 1  
 संग्रधर्ष 905 1 ⇨  
**संग्रधर्ष करना**  
 संग्रधर्ष करना 905.29 ⇨  
**संग्रधर्ष कर्ता**  
 संग्रधर्षशील 905 32  
**संग्रधर्षण**  
 धर्षण 541 1  
**संग्रधर्षशील**  
 संग्रधर्षशील 905.32 ⇨  
**संग्रधर्षी**  
 धर्षक 541 11  
 संग्रधर्षशील 905 32  
**संग्रधवाद**  
 राज्यसंग्रधवाद 884 14  
**संग्रधटिका**  
 सिधाङ्गा 190 35  
**संग्रधटी**  
 चीवर 585 13  
**संग्रधात**  
 एकीभवन 698.4  
 टक्कर 1051.16  
 प्रहार 918 1  
 युद्ध 905 4  
 राशि 686 2  
 संयुति 1010 7  
 सघनन 81 3  
 हत्या 251 5  
**संग्रधात विहारी**  
 गीतम बुद्ध 793 1  
**संग्रधाती**  
 पुरुष मित्र 705 2  
**संग्रधाती**  
 संगी 696 2  
**संग्रधाधिप**  
 राष्ट्रपति 882.2  
 संग्रध अध्यक्ष 692 14  
**संग्रधाराम**  
 आश्रम 745 2  
 शीद मठ 745 12  
**संग्रधीकरण**  
 एकता स्थापना 698 2  
**संग्रधीय**  
 धर्मीय 735 11  
 राज्य संग्रधीय 881 33  
 सामूहिक 690.13  
**संग्रधीय सरकार**  
 केंद्र सरकार 890 14  
**संग्रधीटना**  
 नेपथ्य पूर्वर्ग सूची 468.18  
**संग्रधीषक**  
 नीलाम व्यवसायी 659.9  
**संग्रध**  
 योगज्ञान 710.8  
 शांति काल 906.1  
**संग्रधक**  
 सौचा 665 18

## संघना

### संघना

- संघय करना 645.5  
संघरण करना 667.11
- संघनीय**  
डलनीय 545.32
- संघनीय**  
संग्रहणीय 669.20
- संघय**  
भंडार 670.3  
संग्रह 669.2  
संघय 645.3 ⇨  
समुपव्यय 686.1
- संघयक**  
संग्रह कर्ता 669.21
- संघय करना**  
संघय करना 645.5 ⇨  
संराशित करना 667.10
- संघय कर्ता**  
संग्रह कर्ता 669.21  
संघयी 645.10
- संघयकार**  
संग्रह कर्ता 669.21
- संघवन**  
संग्रहण 669.1  
संराशिकरण 667.4  
संघर्वन 979.7
- संघयहीनता**  
अपव्यय 644.3
- संघयिता**  
संग्रह कर्ता 669.21  
संघयी 645.10
- संघयी**  
कृपण 639.26  
संग्रह कर्ता 669.21  
संघयी 645.10 ⇨
- संघरण**  
गमन 1091.1  
विघरण 1085.1
- संघरण शक्ति**  
ऊर्जा 101.1
- संघरणशील**  
संक्रमणशील 1091.15
- संघरणा**  
खलाना 1046.16  
पहुँचना 1053.8  
प्रसारित होना 979.10
- संघर्षित**  
घर्षित 181.64
- संघस**  
गतिशील 1042.11  
चलित्यु 1080.42  
तर्पित 1040.30  
परिवर्तनशील 532.17  
प्रवाहशील 1041.8  
संचल 1037.19 ⇨  
स्पंदित 1039.18
- संघस कर्ता**  
संचल कर्ता 1037.21 ⇨

### संघलता

- गतिशीलता 1042.2  
परिवर्तनशीलता 532.2  
संचलता 1037.3 ⇨
- संघलन**  
गमन 1091.1  
प्रचलन 514.7  
संचलन 1037.4 ⇨
- संघलन अभाव**  
निश्चलता 1038.2
- संघलनशील**  
संचल 1037.19
- संचल नाड़ी**  
धमनी 131.11
- संचल होना**  
संचलित होना 1037.13
- संचलित**  
संचलित 1037.20 ⇨
- संचलित होना**  
संचलित होना 1037.13 ⇨
- संचायक**  
संघयी 645.10  
संराशक 667.17
- संचार**  
गति 1042.1  
गमन 1091.1  
प्रचार 442.1  
प्रवाह 1041.1  
संचलन 1037.4  
संचार 444.34 ⇨
- संचारक**  
ऊर्जायक 101.15  
गत्वरण कर्ता 1046.22  
प्रचारक 442.19  
प्रणोदक 1051.33
- संचारण**  
अनुप्राणन 1046.6  
उत्प्रेरण 499.2  
ऊर्जायन 101.8
- संचार पथ**  
विघरण मार्ग 1063.17
- संचार माध्यम**  
संचार माध्यम 444.35 ⇨
- संचारयिता**  
ऊर्जायक 101.15  
प्रचारक 442.19  
प्रणोदयिता 1051.34
- संचार विभाग**  
संचार व्यवस्था 444.36
- संचार व्यवस्था**  
संचार व्यवस्था 444.36 ⇨
- संचार व्याधि**  
संचारी रोग 163.5
- संचार सेवा**  
संचार व्यवस्था 444.36
- संचारिणी**  
मध्य यौथिका 1063.52

### संचारित

- उत्प्रेरित 499.8  
ऊर्जायित 101.14  
प्रणोदित 1051.32  
संचलित 1037.20
- संचारी**  
अस्थिर 1037.22  
आरोह अवरोह शील 458.54  
ऊर्जायक 101.15  
गतिशील 1042.11  
जंगम 1037.18  
परिवर्तनशील 532.17  
प्रणोदयिता 1051.34  
प्रवाहशील 1041.8  
वायु 85.1  
संगीत वर्ण सूची 459.24  
स्पर्श कर्ता 269.15
- संचारी भाव**  
संचारी भाव 358.5 ⇨
- संचारी रोग**  
संचारी रोग 163.5 ⇨
- संचालक**  
आयोजक 655.19  
ऊर्जायक 101.15  
कार्याध्यक्ष 652.17  
चालक 1046.24  
नियंत्रक 899.12  
नेता 346.2  
प्रणोदयिता 1051.34  
प्रबंधक 655.9  
व्यवस्थापक 893.14  
शासक 890.5  
संचल कर्ता 1037.21  
संचालक 655.16 ⇨  
सस्था अध्यक्ष 692.2  
समा संचालक 694.20
- संचालक समिति**  
संचालन समिति 692.25
- संचालन**  
आयोजन 655.3  
ऊर्जायन 101.8  
गत्वरण 1046.1  
चालन 1046.2  
निदेशन 347.3  
प्रणोदन 1051.1  
यान चालन 1079.2  
संचालन 655.1 ⇨  
संचालन 1037.5 ⇨  
संस्थापना 693.1
- संचालन कक्ष**  
कौकपिट 1074.20
- संचालन करना**  
संचालित करना 655.12
- संचालन कर्ता**  
संचालक 655.16
- संचालन चक्र**  
दिशा नियंत्रण चक्र 1077.41

### संचालन मंडल

- प्रबंधक समष्टि 655.11
- संचालन यंत्र**  
इंजन 1078.1
- संचालन शक्ति**  
ऊर्जा 101.1
- संचालन समिति**  
संचालन समिति 692.25 ⇨
- संचालना (प्र)**  
मनसिजा 352.5
- संचालनालय**  
निदेशालय 654.9  
प्रबंधालय 654.11
- संचालित**  
अनुप्राणित 1046.31  
ऊर्जायित 101.14  
गत्वरित 1046.21  
यालित 1046.23  
प्रणोदित 1051.32  
संचालित (शस्त्र) 930.18
- संचालित (शस्त्र)**  
संचालित (शस्त्र) 930.18 ⇨
- संचालित करना**  
संचालित करना 655.12 ⇨
- संचितित**  
विमर्शित 330.28
- संचित्य**  
विचारणीय 330.20
- संचित**  
संग्रहित 669.19  
संचित 645.9 ⇨  
संराशित 667.16
- संचित आदेश**  
संचित आवेश 371.3 ⇨
- संचित करना**  
संघय करना 645.5
- संचित कर्म**  
पूर्व कर्म 260.8
- संचित निधि**  
संचित निधि 628.7 ⇨
- संचित राशि**  
जमा राशि 631.14
- संचिति**  
तह कर्म 975.16  
संघय 645.3
- संचेतना**  
चेतना 263.4
- संचेता**  
संग्रह कर्ता 669.21
- संचेय**  
संग्रहणीय 669.20
- संचाद**  
आच्छाद 593.1
- संचादन**  
आच्छादन 592.1
- संचय**  
संचय 771.93 ⇨

संजवन  
आवास चौक 619.4  
मार्ग दर्शक स्तंभ 1067 11  
संजा  
तराजू 982 9  
तराजू पासग 962.25  
प्रतिभार 1061 9  
भार माप 962.1  
संजात  
व्यतीत 74 3  
संजाक्र  
गोट 571 35  
संजावन  
दही जमाई 554 10  
संजावित  
जमा [जमी] (दही) 554.25  
संजी  
तीलने वाला 962.66  
संजीदगी  
विनम्रता 733 8  
स्थिरचितता 355 2  
संजीदा  
अचंचल 860 25  
विनम्र 733 19  
सभ्य 733 13  
स्थिरचित 355.6  
संजीव  
जीवित 246 13  
सावधान 497 4  
स्फूर्त 491.13  
संजीवक  
ऊर्जायक 101 15  
पुनरुज्जीवक 250 22  
संजीवन  
सहनिवास 616 3  
संजीवन  
ऊर्जायन 101.6  
मृतक संजीवन 250 5  
सगति 696.1  
संजीवनी  
सजीवनी औषध 250 7  
संजीवनी औषध  
संजीवनी औषध 250.7 ⇨  
संजीवनी पर्वत  
द्रोणाचल 17 11  
संजीवनी बूटी  
संजीवनी औषध 250 7  
संजीवनी मंत्र  
संजीवनी मंत्र 250.8 ⇨  
संजीवनी विद्या  
संजीवनी विद्या 250.6 ⇨  
संजीवनी विद्याचार्य  
शुक्राचार्य 789.23  
संजीवी  
पुनरुज्जीवक 250.22  
सहनिवासी 616 14  
संजोग  
उपयुक्त अवसर 70.3

संयुति 1010 7  
संयोग 69.1  
संजोगिता  
संयोगिनी 389 11  
संजोगी  
सयोगी 389 10  
संजोना  
आपूर्ति करना 634 21  
एकत्रित करना 667 7  
तह करना 975.24  
परिष्कार करना 537 7  
शोभांचित करना 226 8  
संयर्धन करना 979 14  
संजोया  
बायन प्रतिदान 183 27  
संजोया  
शोभा 226 ;  
सजघज 226 6  
संजोवल  
शस्त्रधारी 930 6  
संज  
चेतनायुक्त 263 12  
स्पर्शानुभूतियुक्त 269 12  
संजक  
अर्थ द्योतक 427 23  
नामक 315 13  
संजप्ति  
संसूचना 441 6  
संजा  
अनुभूति 263 1  
चेतना 263 4  
नाम 315.2  
संजा 425.14 ⇨  
संजा 774.94 ⇨  
स्पर्श अनुभूति 269 1  
संजा: अनुभूरी  
छाया 774.36  
संजा खोना  
चेतना खोना 264.14  
संजाघात  
मूर्च्छा 264 5  
संजात  
परिज्ञात 305.32  
रहस्यहीन 822 22  
संजात 441.18 ⇨  
संजाता  
परिज्ञाता 305 33  
संजातीत  
निस्संज्ञित 174.25  
संज्ञान  
अध्यात्म 761 1  
अनुभूति 263.1  
चेतना 263.4  
बोध 301 9  
संज्ञान: आंतरिक अंग  
मन 351.2  
संज्ञान न होना  
चेतना न होना 264.13

संज्ञानी  
विद्वान 319 8  
संज्ञापक  
अभिव्यक्ति कर्ता 428.18  
संज्ञापक 441.20 ⇨  
संज्ञापन  
अभिव्यक्ति 428.1  
संज्ञापन 441.7 ⇨  
संज्ञापनेच्छा  
संज्ञापनेच्छा 441.8 ⇨  
संज्ञापयिता  
संज्ञापक 441 20  
संज्ञापित  
संज्ञापित 441.19 ⇨  
संज्ञापित करना  
संज्ञापित करना 441.13 ⇨  
संज्ञा लाभ  
चेतना लाभ 263 6  
संज्ञा बंधित  
चेतनाहृत 264.21  
संज्ञावान [संज्ञावती]  
नामक 315 13  
संज्ञा सूची  
संज्ञा सूची 425 15 ⇨  
संज्ञाहरण  
चेतनाहरण 264 3  
निस्संज्ञीकरण 174.7  
संज्ञाहीन  
अजीवित 247 8  
चेतनाहीन 264 20  
नामहीन 315.14  
मूर्च्छित 264 23  
-गर्शानुभूतिहीन 269.13  
संज्ञाहीन करना  
चेतना हरना 264 15  
संज्ञाहीनतः  
चेतनाहीनतः 264.24  
संज्ञाहीनता  
चेतनाहीनता 264 2  
संज्ञाहृत  
चेतनाहृत 264.21  
संज्ञा होना  
चेतना होना 263.8  
संज्ञिका  
नाम 315.2  
संज्ञी  
नामक 315.13  
संज्ञेय  
श्रेय 305.38  
संज्ञेय अपराध  
संज्ञेय अपराध 861.6 ⇨  
संज्ञेयता  
श्रेयता 305.20  
संज्ञवाती  
साध्य दीपक 285.16  
सायंकालीन 47.20  
संज्ञा  
सायंकाल 47.13

संज्ञिया  
साध्य आहार 199.4  
संज्ञोर्ध्व  
सायंकाल ये 47.22  
संटी  
कमची 923.1  
छकी 923.3  
संठ  
छली 827.24  
संठ  
भेड़ बकरी समूह 890.11  
सौंठ 127.12  
संठसा  
प्लास 559.45  
संठसा  
संठसा 560.7 ⇨  
संठसा (वे.)  
पकड़ 559.42  
संठसी  
संठसा 560 7  
संठा [संठी]  
बलिष्ठ 180 10  
संठाई  
संठाई 1072.24 ⇨  
संठाल  
शौचालय 218 18  
संठापी  
संठसा 560 7  
संठिश  
पकड़ 559.42  
प्लास 559.45  
संठी  
हिजकन 238 6  
संत  
आधि 789.2  
धर्म शिक्षक 742.21  
पितांबर 791.1  
संत 790.9 ⇨  
साधु 790.16  
साधु संन्यासी 790.1  
संत: आसन 595.12 ⇨  
संतति  
कुल 726.8  
कृतिका सूची 774.31  
संतान समष्टि 718.2  
संतति निरोध  
गर्भ निरोध 240.4  
संततिहीनता  
निस्संतानता 240.1  
संतति होम  
संतान प्राप्ति यज्ञ सूची 239.4  
संतपन  
उत्पीकन 391.10  
काम बाप सूची 773.17  
संतपन  
उत्पीकित 391.28  
तप 104.22

## संतपत्ता

परचातापपूर्ण 380.12  
 पीडाप्रस्त 392.28  
 प्रायश्चित्तपूर्ण 813.12  
**संतपत्ता**  
 तपता 104.3  
**संत महात्मा**  
 महापुरुष 839.3  
 साधु संन्यासी 790.1  
**संतर्ह**  
 नारंगी 289.48  
**संतरण**  
 तरण 483.20  
**संतरा**  
 खाद्य फल सूची 190.2  
 नारंगी 190.22  
 सतरा 190.34 ⇨  
 संतरा. गोली 203.57  
**संतरा: गोली**  
 सतरा गोली 203.57 ⇨  
**संतरी**  
 द्वार पहरेदार 908.13  
 पहरेदार 908.9  
 पुलिस कर्मी 866.3  
 रक्षक 908.20  
 सरक्षक 908.26  
**संतर्कण**  
 विमर्शन 330.12  
**संतर्पक**  
 तृप्त कर्ता 361.18  
 तृषा शामक 180.22  
**संतर्पण**  
 जल प्रदान 207.10  
 तृप्ति प्रदान 361.6  
 तृषा शमन 180.7  
**संतर्पी**  
 तर्पण कर्ता 253.42  
 तृप्त कर्ता 361.18  
**संत समामम करना**  
 सत्संग करना 749.43  
**संतान**  
 कुल 726.8  
 प्रजा 883.6  
 विस्तार 981.2  
 शाखा प्रशाखा 114.9  
 संतान 718.1 ⇨  
**संतानक**  
 अभिसंतान 720.14  
**संतान कर्म**  
 जनन 243.1  
**संतानकाम**  
 संतानेच्छुक 239.13  
**संतान कामना**  
 संतानेच्छा 239.2  
**संतान जन्म**  
 संतान प्राप्ति 239.6  
**संतानद**  
 संतानप्रद 239.14

**संतान: दत्तकता**  
 दत्तकता 716.4  
**संतान परंपरा**  
 गोत्र 729.1  
**संतान पालन**  
 पालन पोषण 720.1  
**संतानप्रद**  
 संतानप्रद 239.14 ⇨  
**संतान प्रसव**  
 प्रसव 244.1  
**संतान प्राप्ति**  
 संतान प्राप्ति 239.6 ⇨  
**संतान प्राप्ति यज्ञ**  
 संतान प्राप्ति यज्ञ 239.3 ⇨  
**संतान प्राप्ति यज्ञ सूची**  
 संतान प्राप्ति यज्ञ सूची 239.4 ⇨  
**संतान प्रेम**  
 वात्सल्य 721.1  
 वात्सल्य रस 455.17  
**संतान मोह**  
 ममता 721.2  
**संतानयुक्तता**  
 संसंतानता 239.1  
**संतान लाभ**  
 संतान प्राप्ति 239.6  
**संतानवती**  
 संतानवती 239.10 ⇨  
**संतानवता**  
 संसंतानता 239.1  
**संतानवान**  
 संतानवान 239.9 ⇨  
**संतान वृक्ष**  
 स्वर्ग वृक्ष सूची 13.28  
**संतान वृद्धि**  
 वंश वृद्धि 727.8  
**संतान: वैधता**  
 संतान वैधता 716.3 ⇨  
**संतान समष्टि**  
 संतान समष्टि 718.2 ⇨  
**संतानस्थानीय**  
 अभिभावित 720.26  
**संतानहीन**  
 निस्संतान 240.9  
**संतानहीनता**  
 निस्संतानता 240.1  
**संतान होना**  
 प्रसव होना 244.10  
**संतानाकांक्षा**  
 संतानेच्छा 239.2  
**संतानेच्छा**  
 संतानेच्छा 239.2 ⇨  
**संतानेच्छुक**  
 संतानेच्छुक 239.13 ⇨  
**संतानोत्पत्ति**  
 प्रसव 244.1  
**संतानोत्पादन**  
 जनन 243.1

**संताप**  
 क्रोध 373.1  
 दुःख 391.1  
 पाप बोध 813.3  
 मनोव्यथा 391.7  
 शोक 383.1  
**संतापकर**  
 पीडाप्रद 392.26  
 सकटप्रद 909.20  
**संतापन**  
 उत्पीडन 391.10  
**संतापहर**  
 सात्वद 393.22  
**संतापहारी**  
 विश्रामप्रद 494.22  
 सात्वद 393.22  
**संतापी**  
 उत्पीडक 391.29  
 कष्टप्रद 392.22  
 क्लेशप्रद 392.25  
 मनोव्यथाकारी 391.27  
**संतार्य**  
 जलगम्य 1080.47  
**संतार्यता**  
 जलयान: जलगम्यता 1080.29  
**संतीर्ण**  
 पार तरित 1097.16  
**संतुलन**  
 छंद संतुलन 452.33  
 तुलना 309.1  
 समभारता 963.7  
 सममिति 1026.2  
 सामंजस्य 702.1  
**संतुलन चक्र**  
 संतुलन चक्र 1077.42 ⇨  
**संतुलन भार**  
 संतुलन भार 1061.8 ⇨  
**संतुलन लकड़ी**  
 उँटड़ा 1076.20  
**संतुलनहीन**  
 कुडील 155.5  
**संतुलित**  
 तुला [तुली] 962.65  
 निश्चल 1038.8  
 समभार 963.16  
 सममित 1026.8  
 स्थिरचित्त 355.6  
**संतुलितता**  
 समभारता 963.7  
 सुडीलता 155.2  
 स्थिरचित्तता 355.2  
**संतुलित होना**  
 समभार होना 963.9  
**संतुष्ट**  
 तृप्त 361.16  
 प्रसन्न 381.7  
 भरे पेट बाला 182.13

**संतुष्टता:**  
 तृप्तता: 361.19  
**संतुष्टन**  
 तृप्ति प्रदान 361.6  
**संतुष्ट न होना**  
 तृप्त न होना 362.4  
**संतुष्ट होना**  
 तृप्त होना 361.11  
**संतुष्टि**  
 इच्छा पूर्ति 361.1  
 तृष्टि 774.42  
 तृप्ति 361.5  
 सतोष 360.5  
**संतुष्ट**  
 तृप्त 361.16  
**संतुष्टि**  
 तृप्ति 361.5  
**संतोष**  
 इन्द्रिय निग्रह 364.4  
 प्रसन्नता 381.1  
 संतोष 360.5 ⇨  
**संतोष (शब्दार्थ)**  
 नूह 791.15  
**संतोषक**  
 तृप्त कर्ता 361.18  
 प्रसन्न कर्ता 381.8  
 प्रसन्नताप्रद 381.9  
 सतोषप्रद 360.20  
**संतोष करना**  
 संतोष होना 360.8  
**संतोषजनक**  
 पर्याप्त 941.6  
 सतोषप्रद 360.20  
**संतोष दाता**  
 तृप्त कर्ता 361.18  
**संतोष न होना**  
 तृप्त न होना 362.4  
**संतोषना**  
 तृप्त करना 361.12  
**संतोषपूर्ण**  
 संतोषशील 380.19  
**संतोषपूर्वक**  
 इच्छाहीनता: 360.21  
**संतोषप्रद**  
 संतोषप्रद 360.20 ⇨  
**संतोषशील**  
 संतोषशील 360.19 ⇨  
**संतोष होना**  
 तृप्त होना 361.11  
 संतोष होना 360.8 ⇨  
**संतोषित**  
 मनाया [मनाई] 374.19  
**संतोषी**  
 संतोषशील 360.19  
**संतोष्य**  
 तर्पणीय 361.17  
**संत्यक्ता**  
 परित्यक्त पत्नी 804.5

संस्थाग  
भोग त्याग 364 3  
व्यसन त्याग 8:3 6  
संस्थागी  
बहिष्कारक 870 30  
संत्रस्त  
आतकित 395 23  
संत्राण  
आमोचन 1015 2  
भग नाश 394 8  
सकट मोचन 910 1  
संत्राता  
आमोचक 1015 11  
जीवन रक्षक 906 23  
मसीहा 791 3  
सकट मोचक 910 10  
संत्रास  
आतंक 395 5  
आतकानुभूति 353 6  
कष्ट 392 1  
मनोघात 354 3  
संत्रासी  
कष्टप्रद 392 22  
भयानक 395 25  
संत्वरण  
वेग वर्धन 1043 6  
संत्वरित  
वेग वर्धित 1043 17  
संथा  
उपदेश 430 9  
पाठ 412 31  
सस्था 692 1  
सीख 332 6  
संथागार  
उपदेश कक्ष 745 41  
संथीय  
सस्थानीय 692 31  
संथीशिका  
पकड़ 559 42  
संथ  
दग्ध 108 13  
संथ  
अवसर 70.1  
व्यवहार 703 2  
सदर्म 437.3 ⇨  
संथ अर्थ  
प्रकरण अर्थ 426 12  
संथ ग्रंथ  
संथ पुस्तक 446.20  
संथतः  
सदर्मतः 437 18 ⇨  
संथता  
परस्पर्यायता 426.24  
संथ पुस्तक  
संथ पुस्तक 446.20 ⇨  
संथ में  
संथ में 437.16 ⇨

संथयुक्त  
सगत 438 6  
संथयश  
संथयश 437 17 ⇨  
संथयः  
सदर्मत 437.18  
संथ से  
सदर्मत 437 18  
संथहीन  
सदर्महीन 439 7 ⇨  
संथहीनता  
सदर्महीनता 439 3 ⇨  
संथानुकूल  
सगत 438 6  
संथानुकूलता  
सगतता 438 1  
संथ  
पसंपीकृत्य 404 19  
संथक  
प्रशिक्षक 323 21  
संथन  
दार्शनिक कर्म 760 2  
विचारण 330 5  
प्रदर्शनलय 609 17  
संथित  
सिद्ध 877 22  
संथी  
प्रदर्शक 285.44  
संथल  
अर्गल 609 18  
घदन 274 20  
संथली  
चौकी 595 17  
सीढ़ीदार स्तूल 613 8  
संथहन  
दहन 108 1  
संथायाद  
सहायताधिकारी 623 3  
संथि  
अनिर्धारित 328 15  
अस्पष्ट 823 11  
आशंकित 377 8  
दुबिधाजनक 501 9  
विवादित 324 23  
संथि 341.9 ⇨  
संथि अर्थ  
संथि अर्थ 426 15 ⇨  
संथितः  
अस्पष्टतः 823 15  
संदेहपूर्वक 341 11  
संथिता  
अस्पष्टता 823 1  
संथि लेख्य  
कुलेख 412.12  
संथिधर्म  
संथिधर्म 426.34 ⇨

संथि  
नियत 68.16  
संथी  
बुनी चौकी 595 18  
संथीप  
दीपक 285.13  
संथीपक  
भावोदीपक 358 24  
संथीपन  
आलोकन 285 2  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
दीप प्रज्वलन 285 4  
भावोदीपन 358 8  
संथीपिका  
व्याख्या पुस्तक 446.31  
संथीपित  
भावोदीपत 358 23  
संथीपत  
अन्याघानित 107 13  
आलोक वर्धित 285.47  
आलोकित 285.45  
दीप 287 34  
संथीपि  
अंतरवद्वता 285 34  
संथीप  
आलोक वर्धित 285 47  
संथु  
कुस्वभावी 838 8  
पुणित 169 15  
वैनमस्यपूर्ण 706.21  
सड़ा [सड़ी] 197 48  
संथुक  
नाबूत 254 7  
संथुक 676 15 ⇨  
सूटकेस 676 19  
संथुकघा  
संथुक 676 15  
संथुकवी  
केश बाक्स 630 4  
संथुकवी 676.18 ⇨  
संथुकवी  
संथुकवी 676 18  
संथुक  
दुर्गणकारक 314 9  
प्रदूषक 217 9  
संथुषण  
पूयन 169.9  
प्रदूषण 217.3  
संथुषित  
प्रदूषित 217.8  
सड़ा [सड़ी] 197.48  
संथुषिता  
मलिनता 217.1  
संथुषि  
श्रेष्ठ ग्रंथि 352 7  
संथुषय  
वाक्षुष 397 34

संथेय  
देय 634 27  
संथेश  
निर्मत्रण 1056 1  
निर्मत्रण पत्र 1056.2  
निर्देश 347.4  
पत्र 444 1  
संथेश 203.43 ⇨  
संथेश 443.1 ⇨  
संथेश दाता  
संथेश वाहक 443.3  
संथेश देना  
संथेश लाना 443 18  
संथेश लाना  
संथेश लाना 443.18 ⇨  
संथेश ले जाना  
संथेश लाना 443.18  
संथेश वहन  
संथेश वहन 443.2 ⇨  
संथेश वहन (दे.)  
पत्र वहन 444 17  
संथेश वाहक  
पैगाबर 791 1  
प्रतिनिधि सूची 888.27  
विट 467 18  
संथेश वाहक 443.3 ⇨  
संथेश वाहक (दे.)  
पत्र वाहक 444.18  
संथेशवाहक वाद  
पैगाबर वाद 760 20  
संथेशाहर  
संथेश वाहक 443.3  
संथेशाहारी  
संथेश वाहक 443 3  
संथेशा  
निर्मत्रण पत्र 1056.2  
संथेश 443.1  
संथेह  
आशका 377 1  
संथेह 341.3 ⇨  
सादृश्य आभास 309.4  
संथेह करना  
संथेह करना 341.5 ⇨  
संथेह बोला  
दुबिधा 501 1  
संथेह निवारण  
संथेह निवारण 340.7 ⇨  
संथेहपूर्ण  
संथि 341.9  
संथेहपूर्वक  
संथेहपूर्वक 341.11 ⇨  
संथेहप्रव  
संथि 341.9  
संथेह भंजन  
संथेह निवारण 340.7  
संथेहशील  
संथेहशील 341.10 ⇨

## संदेहहीन

### संदेहहीन

- असंदिग्ध 340.19  
दुविधाहीन 500.13  
संदेहहीन 340.20 ⇨  
संदेहहीनता:  
संदेहहीनता: 340.23 ⇨  
स्पष्टतः 822.32  
संदेहहीनता  
अनासका 378.1  
दुविधाहीनता 500.4  
संदेहहीनता 340.6 ⇨  
संदेहास्पद  
संदिग्ध 341.9  
संदेही  
संदेहशील 341.10  
संबोल  
कर्णपुर 228.8  
संज्ञक  
तरल 80.5  
आवशील 83.17  
संज्ञक  
द्रवण 80.2  
संज्ञावक  
द्रावक 80.7  
संज्ञ  
झला [झली] 565.25  
संयुक्त 1010.22  
संज्ञना  
एक होना 698.8  
संयुक्त होना 1010.17  
संज्ञा  
घनिष्ठता 704.13  
वचन 339.15  
संज्ञाता  
झलाईगर 565.26  
संज्ञान  
अनुसंधान 307.4  
आसवन 82.1  
खोज 336.4  
झलाई 565.4  
मद्य आसवन 82.2  
रोग निदान 171.2  
लक्ष्य केंद्र 931.7  
लक्ष्य संधान 931.9  
विचारण 330.5  
विशोधन 219.1  
संयोजन 1010.10  
सम्मिश्रण 1008.12  
संज्ञानक  
संयुक्त कर्ता 1010.23  
संज्ञानना  
लक्ष्य साधना 931.15  
संज्ञानित  
एकीकृत 698.10  
झला [झली] 565.25  
संज्ञानित्र (प्र)  
लक्ष्य संघानी 283.12

### संघानी

- आसवन उपकरण 82.4  
झलाईगर 565.26  
मद्य आसवन शाला 82.3  
लक्ष्य साधक 931.20  
संयुक्त कर्ता 1010.23  
संज्ञा भाषा  
विपरीतोक्ति 434.10  
संज्ञारण  
निवारण 920.4  
प्रोत्थापन 1062.5  
संज्ञि  
अनुबन्ध 339.1  
युग संज्ञि 40.4  
शब्द संज्ञि 425.52  
सघटन 545.1  
संज्ञि 906.5 ⇨  
संयुक्ति 1010.7  
समझौता 877.5  
संज्ञिकरण  
संयोजन 1010.10  
संज्ञि काल  
दिन-रात संज्ञि काल 47.15  
वयसंज्ञि 230.30  
संज्ञि काल 1091.4  
संज्ञि गुण  
घात स्थान 914.2  
संज्ञि ग्रन्थि  
अवयव संज्ञि 139.10  
संज्ञि छेद  
संज्ञि भंग 907.13  
संज्ञि जीवक  
कुटना 807.10  
संज्ञित  
अनुसंधानित 307.15  
संयुक्त 1010.22  
संज्ञिमिश्रित 1008.26  
संज्ञि पत्र  
संज्ञि पत्र 906.6 ⇨  
संज्ञि बंधन  
शिरा 131.12  
संज्ञि भंग  
अनुबन्ध भंग 338.14  
अस्थि भंग 168.3  
संज्ञि भंग 907.13 ⇨  
संज्ञि भेदन  
संघमारी 864.15  
संज्ञि राग  
साध्य लालिमा 287.15  
सिंदूर 225.18  
संज्ञिला  
मदिरा 209.12  
संज्ञिवात  
संज्ञिवात 163.23 ⇨  
संज्ञि विग्रह  
युद्ध आरंभ 907.1  
संज्ञि भंग 907.13

### संज्ञि विच्छेद

- संज्ञि भंग 907.13  
संज्ञि वेला  
दिन-रात संज्ञि काल 47.15  
संज्ञि शूल  
संज्ञिवात 163.23  
संज्ञि स्थल  
संयुक्ति स्थल 1010.11  
संज्ञि स्थापना  
मित्रता स्थापना 705.15  
संज्ञिहीन  
युक्तिहीन 1010.25  
संज्ञिहीनता  
युक्तिहीनता 1010.12  
संज्ञ्यांश  
युग संज्ञि 40.4  
संज्ञ्या  
त्रिसध्या 47.2  
दिन-रात संज्ञि काल 47.15  
युग संज्ञि 40.4  
संज्ञ्योपासना 749.33  
सायकाल 47.13  
सीमा 1001.1  
संज्ञ्या करना  
संज्ञ्योपासना करना 749.47  
संज्ञ्या कर्ता  
संज्ञ्योपासक 749.34  
संज्ञ्या काल  
सायकाल 47.13  
संज्ञ्या कालीन  
सायकालीन 47.20  
संज्ञ्याघल  
अस्ताघल 17.9  
संज्ञ्या दीप  
साध्य दीपक 285.16  
संज्ञ्या बल  
राक्षस 784.1  
संज्ञ्या राग  
साध्य लालिमा 287.15  
संज्ञ्या बंधन  
संज्ञ्योपासना 749.33  
संज्ञ्योपासक  
संज्ञ्योपासक 749.34 ⇨  
संज्ञ्योपासना  
संज्ञ्योपासना 749.33 ⇨  
संज्ञ्योपासना करना  
संज्ञ्योपासना करना 749.47 ⇨  
संज्ञिभ  
सदृश्य 309.20  
सादृश्य उक्ति सूची 309.26  
संज्ञिभवन  
निर्यंत्रण कर्म 899.11  
शासन कर्म 890.3  
संज्ञिभयित  
नियमित 71.10  
संज्ञिभयितता  
व्यवस्थितता 893.6

### संज्ञियमी

- नियम पालक 879.20  
संज्ञिवेशन  
आवासन 618.1  
संज्ञ्यस्त  
विरक्त 366.6  
संज्ञ्यस्त 233.11 ⇨  
संज्ञ्यास  
कर्मफल त्याग 504.13  
विरक्ति 366.2  
संज्ञ्यास आश्रम 233.6  
संज्ञ्यास आश्रम  
चार आश्रम सूची 233.3  
संज्ञ्यास आश्रम 233.6 ⇨  
संज्ञ्यास आश्रम प्रवेश  
संज्ञ्यास प्रवेश 233.8  
संज्ञ्यास आश्रमी  
संज्ञ्यास आश्रमी 233.7 ⇨  
संज्ञ्यासी 790.11  
संज्ञ्यास ग्रहण  
संज्ञ्यास प्रवेश 233.8  
संज्ञ्यास प्रवेश .  
संज्ञ्यास प्रवेश 233.8 ⇨  
संज्ञ्यास लेना  
संज्ञ्यास लेना 233.9 ⇨  
संज्ञ्यासिनी  
संज्ञ्यासिनी 790.12 ⇨  
साधु स्त्री 790.17  
संज्ञ्यासी  
अनासक्त 366.5  
धर्म शिक्षक 742.21  
योगी 756.3  
संज्ञ्यासी 790.11 ⇨  
संज्ञ्यासी (दे.)  
संज्ञ्यास आश्रमी 233.7  
संज्ञ्यासी बनना  
संज्ञ्यास लेना 233.9  
संज्ञ्यकुमार  
विष्णु मूर्ति सूची 746.7  
संज्ञ्यपति  
संज्ञ्यपति 624.1 ⇨  
संज्ञ्यपति कर  
संज्ञ्यपति कर 647.7 ⇨  
संज्ञ्यपतिशालिता  
संज्ञ्यपति 626.1  
संज्ञ्यपतिशाली  
धनाढ्य 626.14  
संज्ञ्यपति 626.11  
संज्ञ्यपतीय  
संज्ञ्यपतीय 624.15 ⇨  
संज्ञ्य  
अत्यधिकता 944.2  
कोश 630.1  
संज्ञ्यपद मुद्रा 1029.8  
संज्ञ्यपद 280.17  
संज्ञ्य  
संज्ञ्यपति 624.1  
संज्ञ्यगुण 313.6

सुंदरता 157 1  
**संपन्न**  
 उष्याचित 625 7  
 कार्यान्वित 505.27  
 घटित 75.11  
 पूर्ण विकसित 534 15  
 पूर्णच्छ 361 13  
 सफल 512.6  
 समाप्त (कार्य) 522 4  
 समृद्ध 626 11  
 सहित 1008 2  
**-संपन्न**  
 सहित प्रत्यय सूची 1006 5  
**संपन्न**  
 सीभाग्यशाली 280 33  
**संपन्नता**  
 समृद्धि 626.1  
 सहितता 1006.1  
 सुलभता 943 2  
**संपन्नन**  
 कार्यान्वयन 505 5  
**संपराय**  
 सकट 909.1  
**संपर्क**  
 परिचितता 704 1  
 मिलन 389.1  
 संपर्क 703 5 ⇨  
 संयुति 1010 7  
 स्पर्श 289 2  
**संपर्क टूटना**  
 संपर्क टूटना 697.11 ⇨  
**संपर्कन**  
 संपर्क स्थापना 703 6  
**संपर्क में आना**  
 साबका पड़ना 703 9  
**संपर्क में न रहना**  
 संपर्क टूटना 697 11  
**संपर्क स्थापना**  
 संपर्क स्थापना 703.6 ⇨  
**संपर्कहीन**  
 संपर्कहीन 697.19 ⇨  
**संपर्कहीनता**  
 संपर्कहीनता 697 8 ⇨  
**संपर्कागत**  
 संपर्कागत 703.11 ⇨  
**संपन्न**  
 स्वच्छीकरण 218.2  
**संपादन**  
 परिपाचन 195.19  
**संपाठ**  
 चाँसठ कला सूची 397.4  
**संपात**  
 अभिसार स्थल 237 2  
 दल उड़ान 1081 15  
 मार्ग संगम 1098 12  
 डैडिंग 1081.28  
 संपात बिंदु 968 5  
 सहकृद 1088.4

**संपात बिंदु**  
 संपात बिंदु 968.5 ⇨  
**संपादक**  
 कार्य समापक 522 5  
 पत्रकार 445.6  
 संपादक 445.15 ⇨  
 संशोधक 537 12  
**संपादक कर्म**  
 पत्रकारिता 445 7  
 संपादन 445 11  
**संपादक की कलम से**  
 संपादकीय लेख 445.24  
**संपादक मंडल**  
 संपादक मंडल 445.14 ⇨  
**संपादक सूची**  
 संपादक सूची 445.16 ⇨  
**संपादकीय**  
 संपादकीय लेख 445 24  
 संपादन विभाग 445 13  
**संपादकीय पृष्ठ**  
 संपादकीय पृष्ठ 447.25 ⇨  
**संपादकीय लेख**  
 संपादकीय लेख 445.24 ⇨  
**संपादकीय विभाग**  
 संपादन विभाग 445 13  
**संपादन**  
 करण 505 1  
 कार्यान्वयन 505 5  
 पत्रकारिता 445 7  
 फ़िल्म संपादन 47 11  
 सक्षेपण 980 5  
 संपादन 445.11 ⇨  
 संशोधन 537.4  
**संपादन मंडल**  
 संपादक मंडल 445 14  
**संपादन विभाग**  
 संपादन विभाग 445.13 ⇨  
**संपादनीय**  
 कार्यान्वयनीय 505 25  
**संपादयिता**  
 कार्य समापक 522.5  
 कार्यान्वय कर्ता 505 28  
**संपादित**  
 कार्यान्वित 505 27  
 संक्षिप्त 980 24  
 समाप्त (कार्य) 522.4  
 सारासित 449 30  
**संपाद्य**  
 कार्यान्वयनीय 505.25  
 साध्य 518.18  
**संपाद्यता**  
 व्यावहारिकता 828.2  
 साध्यता 518 4  
**संपिंडन**  
 पिंडन 81.7  
**संपिंडित**  
 पिंडित 81.19

**संपीड़क**  
 उत्पीड़क 391.29  
**संपीड़ित**  
 उत्पीड़ित 391 28  
 दुःखी 391 24  
**संपीति**  
 मद्यपान गोष्ठी 209.23  
**संपुंज**  
 राशि 686 2  
**संपुंजन**  
 केंद्रण 971.7  
 संपुंजन 288.4 ⇨  
**संपुंज बिंदु**  
 अग्रशु 971.2  
**संपुंजित**  
 संपुंजित 288 10 ⇨  
**संपुंजित करना**  
 संपुंजित करना 288.8 ⇨  
**संपुट**  
 अंजलि पात्र 150 3  
 अंजलि पुट 150 4  
 कटोरा 683 1  
 ढक्कन 675 6  
 दोना 683 12  
 पिधान 675.3  
 भूगोलार्ध 10 4  
 मुकुलित 120.8  
 रत्न मंजूषा 676 5  
**संपुटक**  
 गोल पिटारी 677 14  
**संपुटिका**  
 आमूषण मंजूषा 676 6  
 कैप्सूल 176 13  
**संपुटी**  
 छोटी कटोरी 683.7  
**संपुत्र**  
 अभिपुत्र 720 15  
**संपुत्री**  
 अभिपुत्री 720.18  
**संपुष्ट**  
 संपुष्ट 337.25 ⇨  
**संपुष्ट करना**  
 संपुष्ट करना 337.13 ⇨  
**संपुष्ट कर्ता**  
 संपुष्ट कर्ता 337.26 ⇨  
**संपुष्टि**  
 संपुष्टि 337.8 ⇨  
**संपुष्टि न करना**  
 संपुष्टि न करना 338.22 ⇨  
**संपुष्य**  
 आदरणीय 854 18  
**संपूरण**  
 कार्य समापन 522.2  
 फुलाई 988 5  
**संपूर्ण**  
 अनवशिष्ट 954.18  
 अभंजित 539.13  
 अविनक्त 698.11

असंक्षिप्त 978.7  
 आद्योपांत 940 14  
 नितांत अंतिम 995.15  
 परिपूर्ण 313.14  
 पूर्ण रक्षित 527.16  
 पूर्णांशिक 940 13  
 भरा [भरी] 1004.12  
 युतिहीन 1010.26  
 राग जाति सूची 1 457.14  
 समाप्त 842.20  
 समाप्त (कार्य) 522.4  
 सर्व 940.8  
 सर्वांग 153.14  
**-संपूर्ण**  
 सहित: प्रत्यय सूची 1006.5  
**संपूर्ण: अस्मिता**  
 सामूहिकता 690.2  
**संपूर्णकाम**  
 पूर्णच्छ 361.13  
**संपूर्णकालिक**  
 कालजात 62 17  
**संपूर्ण खोपकी**  
 कपाल 133.6  
**संपूर्ण जगत**  
 जड़ चेतन जगत 78 1  
**संपूर्ण जीवन**  
 आयु 229 1  
**संपूर्णतः**  
 असंक्षिप्ततः 978.8  
 आद्योपांततः 940.16  
 पूर्णांशतः 940 15  
 प्रतिरूपतः 967.23  
 शत प्रति शत 947.32  
**संपूर्णतया**  
 असंक्षिप्ततः 978.8  
 आद्योपांततः 940.16  
 पूर्णांशतः 940.15  
 प्रतिरूपतः 967.23  
 शत प्रति शत 947 32  
**संपूर्णता**  
 अविनक्तता 698.6  
 असंक्षिप्तता 978.3  
 आद्योपांतता 940.7  
 परिपूर्णता 313.5  
 पूर्णांशता 940.5  
 सर्वता 940.1  
 सर्वांगता 153.1  
 सामूहिकता 690.2  
**संपूर्ण धरातल**  
 संपूर्ण धरातल 25.1 ⇨  
**संपूर्ण परिवर्तन**  
 क्रांति 903.5  
**संपूर्ण पृथ्वी**  
 पृथ्वी: गोला 10 3  
**संपूर्ण विश्व**  
 नीर क्षीर विश्व 1008.3  
**संपूर्ण राग**  
 संपूर्ण राग 457.17 ⇨

## संपूर्ण वनस्पति

**संपूर्ण वनस्पति**  
 वनस्पति जगत 121 2  
**संपूर्ण विधि**  
 प्रक्रिया 514 5  
**संपूर्ण किथ**  
 ब्रह्मांड 1 1  
**संपूर्णबुद्ध**  
 पूर्ण विकसित 534.15  
**संपूर्ण वेद**  
 संपूर्ण वेद 740.24 ⇌  
**संपूर्ण साहित्य**  
 संकलन पुस्तक 446 23  
**संपूर्त**  
 आपूर्त 634 33  
 पालित (आज्ञा) 347 20  
 फूला [फूली] 988.13  
 भरा [भरी] 1004 12  
 समाप्त (कार्य) 522 4  
**संपूर्त न होना**  
 समाप्त न होना 523 4  
**संपूर्ति**  
 आपूर्ति 634 14  
 कार्य समाप्ति 522.1  
 प्रविष्टि 412.27  
 मींग पूर्ति 656 5  
 रसद 656.10  
**संपूक**  
 मिला [मिली] 389.8  
 सटा [सटी] 31 8  
**संपूकता**  
 प्रतिबद्धता 826.6  
**संपूक्ति**  
 संलग्नता 1010.2  
**सैंपेरा**  
 सैंपेरा 473.25 ⇌  
**सैंपोस्ला [सैंपोस्लन]**  
 सौप शिशु 230.7  
**सैंपोस्लिया**  
 सौप शिशु 230.7  
**सैंपोषक**  
 टोनिक् 176 18  
 पीष्टिक 179.22  
 शक्ति वर्धक 487.23  
 संबर्धक 979.26  
 समर्थक 885.36  
 सहायता दाता 700.25  
**सैंपोषकता**  
 पोषकता 179.2  
**सैंपोषण**  
 पोषण 179 1  
 शक्ति वर्धन 487.3  
 संबर्धन 979 7  
**सैंपोषामिन (प्र)**  
 विटामिन 179.16  
**सैंपोषित**  
 संबर्धित 979.25  
**सैंपोषिता**  
 परपोषित पुत्री 720 10

**संप्रक्षालित**  
 प्रक्षालित 220 40  
**संप्रतर्दन**  
 पिटल 918 35  
**संप्रति**  
 अभिमुख 1023 9  
 दिशा मे 29 35  
 प्रतिद्वंद्वितापूर्वक 707 15  
 लक्ष्य पर 931 26  
 वर्तमान मे 36 33  
 विषयक 437.15  
 सदर्भ मे 437.16  
**संप्रतीत**  
 ज्ञात 305 29  
**संप्रति**  
 हस्तांतरण 638.4  
**संप्रदान**  
 उपहार प्रदान 640 1  
 हस्तांतरण 638 4  
**संप्रदान कारक**  
 संप्रदान कारक 425.24 ⇌  
**संप्रदाय**  
 धर्म 735.1  
 मत 343.1  
 वाद 343 10  
**संप्रदायः चिह्न**  
 धर्म चिह्न 407 7  
**संप्रदाय निरपेक्ष राज्य**  
 इहलोक तत्र 881 15  
**संप्रदायबाध**  
 संप्रदायबाध 884.23 ⇌  
**संप्रदाय वैशाभूषा**  
 धार्मिक वेश 589.7  
**संप्रदायागत**  
 पारंपरिक 795 13  
**संप्रदायी**  
 धर्मीय 735 11  
**संप्रयोक्ता**  
 प्रयोग कर्ता 307 20  
**संप्रयोग**  
 जादूगरी 474 9  
 नव प्रयोग 307.6  
 व्यवस्थितता 893.6  
 व्यवहार 703.2  
**संप्रवर्तक**  
 आविष्कर्ता 307 18  
 प्रकृत कर्ता 502.11  
**संप्रवर्तन**  
 प्रवर्तन 693.3  
 संस्थापना 693 1  
 नियमन 1046.13  
**संप्रवृत्ति**  
 प्रवृत्ति 502 1  
**संप्रचनन**  
 पृच्छन 333.3  
**संप्रचिनित**  
 प्रचिनित 333 23

**संप्रसादक**  
 प्रसन्नताप्रद 381.9  
**संप्रसार**  
 संचार 444 34  
**संप्रहार**  
 मारण 251 1  
**संप्राणन**  
 ऊर्जायन 101 6  
**संप्राप्त**  
 आविष्कृत 307 17  
**संप्राप्तयौवना**  
 युवती 231.9  
**संप्रक्षण**  
 सूक्ष्म निरीक्षण 284 18  
**संप्रेष**  
 मात्रावाहन 1055 2  
**संप्रेषक**  
 प्रेषक 1054.16  
 संप्रेषक 428.20 ⇌  
**संप्रेषण**  
 प्रेषण 1054 1  
 संप्रेषण 428 3 ⇌  
**संप्रेषित**  
 प्रेषित 1054.14  
**संप्रेषित करना**  
 भेजना 1054.10  
**संप्रोक्त**  
 घोषित 441 22  
 संबोधित 430.25  
**संप्लव**  
 जल प्रलय 530 2  
**संप्लवन**  
 जल अवतारण 1080 9  
 तरण 483 20  
 प्रवहन 1041 2  
**संप्लावक**  
 जलावतारक 1080.44  
**संप्लावित**  
 जलावतरित 1080 43  
 प्रवाहित 1041.7  
 बाह्यग्रस्त 22.6  
**संप्लावी**  
 तरणशील 483 27  
**संबंध**  
 जनन संबंध 716.1  
 परिचितता 704.1  
 प्रयोजन 508.1  
 मित्रता 705.1  
 रिश्तेदारी 715.5  
 विवाह 799.1  
 व्यवहार 703 2  
 संगति 696 1  
 सदर्भ 437 3  
 संपर्क 703 5  
 संबंध 715 1 ⇌  
 संयुति 1010 7  
**संबंधक**  
 विवाह संबंध 724 1

**संबंध कारक**  
 संबंध कारक 425.26 ⇌  
**संबंध दूटना**  
 अलगीझा होना 699.13  
**संबंधतः**  
 संबंधतः 715 14 ⇌  
**संबंध तिक्त होना**  
 वैमनस्य होना 706.14  
**संबंध तौकना**  
 परित्याग करना 1003.3  
 बहिष्कार करना 870.20  
**संबंधना (प्र)**  
 साधारणीकरण 352 14  
**संबंधयिता**  
 अगीकारक 1002 24  
 विवाह घटक 801 1  
**संबंध योग्य होना**  
 जन्मपत्री मिलना 799 51  
**संबंध विच्छेद**  
 तलाक 804 8  
 परित्याग 1003 1  
**संबंध विस्थापना**  
 मित्रता विस्थापना 705.16  
**संबंध से**  
 संबंधतः 715 14  
**संबंध स्थापना**  
 मित्रता स्थापना 705 15  
**संबंधहीन**  
 असंबंधित 715 13  
**संबंधहीनता**  
 परजन भावना 725 4  
 संपर्कहीनता 697 8  
**संबंध होना**  
 व्यवहार होना 703 7  
 संबंधित होना 715.7  
**संबंधित**  
 परस्पर्यायवाची 426 39  
 पारिवारिक 726 13  
 विषयक 437.15  
 संगत 438 6  
**संबंधित 715 10 ⇌**  
**संबंधित 715.11 ⇌**  
**संबंधित 715.12 ⇌**  
 संबंधीय 715 11  
**संबंधितता**  
 संगतता 438 1  
 संयुक्तता 1010.8  
 स्वजन भावना 725 2  
**संबंधित न होना**  
 संबंधित न होना 715.8 ⇌  
**संबंधित व्यक्ति**  
 रिश्तेदार 715 6  
**संबंधित होना**  
 संबंधित होना 715.7 ⇌  
**संबंधिन**  
 समर्थिन 724.5  
**संबंधी**  
 पारिवारिक 726.13



रिश्तेदार 715 6  
रिश्तेदार 715 6  
वैवाहिक संबंधी 724.2  
सगत 438 6  
संबंधीय 715.11  
समधी 724 4

**संबंधी गण**

स्वजन 725 1  
**संबंधीय**  
कुटुंबीय 726 16

**संबद्ध**

एकीकृत 698 10  
गुट सापेक्ष 885.40  
परस्पर्यायवाची 426 39  
संगत 438 6  
संग्रहित 573 15  
संबंधित 715 12  
संयुक्त 1010 22  
सलग्न 1010 18  
सटा [सटी] 31 8  
सहित 1006 2

**संबद्धता**

परस्पर्यायता 426 24  
सगतता 438 1  
सयुक्तता 1010 8  
सलग्नता 1010 2

**संबद्धन**

संलग्नन 1010.1

**संबल**

तट 25 8  
यात्रा आहार 199 6

**संबाध**

निषेध 880.1

**संबुद्ध**

गीतम बुद्ध 793.1

**संबोध**

चेतना 263.4  
जागरण 265.2

**संबोधक -**

संबोधन कर्ता 430.26

**संबोधन**

अभिवादन 1060 1  
उद्बोधन 499.3  
बोध प्रदान 301.10  
भाषण 430 8

संबोधन 430.10 ⇨

संबोधन कारक 425.28

**संबोधन करना**

संबोधित करना 430.15

**संबोधन कर्ता**

संबोधन कर्ता 430.26 ⇨

**संबोधन कारक**

संबोधन कारक 425.28 ⇨

**संबोधन चिह्न (!)**

विस्मयादि बोधक चिह्न 425.36

**संबोधित**

संबोधित 430.25 ⇨

**संबोधित करना**

संबोधित करना 430.15 ⇨

**संभक्त**

भक्त 790 6

**संभक्ति**

विभाजन रेखा 968.12

**संभर**

मौग पूर्ति 656.5

**संभरित**

संघित 645.9

**संभल**

कल्कि आवास 769 18

संभल कर खर्च करना

मित व्यय करना 644.14

संभल कर खर्च

नारंगी बत्ती 1067.16

**संभलना**

आरोग्य लाभ होना 171 17

उन्नत होना 534 8

चेतना लाभ होना 263 9

संयम पालना 808 11

सावधान होना 497 3

**संभला [संभली]**

व्यवस्थित 893.13

संवरित 667 18

**संभव**

घटनीय 75.13

व्यावहारिक 828.9

संभव 68 13 ⇨

साध्य 518 16

**संभवतः**

संभवतः 68.19 ⇨

**संभवता**

व्यावहारिकता 828 2

संभावना 68 1

**संभवन**

अवतरण 769.2

अस्तित्व धारण 246 2

**संभव न होना**

व्यावहारिक न होना 829 7

**संभवना**

घटित होना 75.8

**संभव नाथ**

तीर्थकर सूची 792 2

**संभव होना**

व्यावहारिक होना 828 6

संभावना होना 68.9

साध्य होना 518.13

**संभवानि युगे युगे**

अवतरण 769.2

**संभविष्णु**

भविष्णु 67.8

भविष्णु कालीन 36.22

**संभविष्णुता**

भविष्णुता 67.1

**संभान**

जनपद सभूह 34.7

संभान 937.1 ⇨

साझा 621.6

**संभाजन**

संभागीकरण 937 2

**संभांगिता**

साझेदारी 621 7

**संभागीकरण**

संभागीकरण 937.2 ⇨

**संभागीकरण कर्ता**

संभागीकरण कर्ता 937.11 ⇨

**संभागीकृत**

संभागीकृत 937 10 ⇨

**संभागीकृत करना**

संभागीकृत करना 937.9 ⇨

**संभागीय**

संभागीय 937 12 ⇨

**संभाजन**

कोटिकरण 936 5

**संभाजित**

कोटिकृत 936 13

**संभार**

प्रहार सहन 920 1

राज भंडार 670 4

**संभार**

संवरण 667 5

**संभार**

साज सामान 558.6

**संभारना**

संवरण करना 667 11

**संभारिक**

समदाब रेखा 51 11

**संभाल**

उत्थापन 1030.2

पालन पोषण 720.1

**संभाल**

प्रहार सहन 920 1

**संभाल**

रखरखाव 538 4

व्यवस्था 893 5

संरक्षा 908 3

संवरण 667 5

संवरण 979.7

सावधानी 497 1

**संभाल कर रखना**

संग्रह करना 669 18

**संभालना**

आदान करना 637.3

उद्ग्रहण करना 1062.26

कार्यान्वयन करना 505.12

धरना 1019.10

वहन करना 1061.15

व्ययस्थापित करना 893.8

संरण देना 910.8

संवरण करना 667.11

संवरण करना 979.14

**संभाल से**

सावधानतः 497.6

**संभाला**

उत्थापन 1030.2

**संभाला [संभाली]**

उद्ग्रहीत 1062.34

संवरित 667 18

**संभावन**

उत्पादन 546 4

विचारण 330.5

**संभावना**

आरंभिक लक्षण 317.6

आशा 375 1

संभावना 68 1 ⇨

संयोग 69 1

संभावना न होना

असंभव होना 68.10

**संभावना लक्षण**

संभावना लक्षण 68.3 ⇨

संभावना लक्षण होना

संभावना होना 68.9

**संभावना होना**

संभावना होना 68.9 ⇨

**संभावनीय**

संभव 68 13

**संभावित**

प्रत्याशित 375 9

भविष्णु 67 8

संभव 68 13

**संभावित आयु**

संभावित आयु 229.2 ⇨

संभावित जीवन काल

संभावित आयु 229.2

**संभावितता**

प्रत्याशितता 375 6

संभावितता 68.2 ⇨

**संभाविता**

भविष्णुता 67 1

संभावितता 68 2

**संभाव्य**

भविष्णु 67.8

विचारणीय 330.20

व्यावहारिक 828 9

संभव 68 13

साध्य 518 16

**संभाव्यता**

व्यावहारिकता 828.2

साध्यता 518.4

**संभाव**

अनुबंध 339.1

कूट शब्द 823.4

वार्तालाप 435.1

**संभावण**

अभिवादन 1060.1

कथन 430.1

वार्तालाप 435.1

**संभाषा**

कूट भाषा 823.3

**संभाषित**

अभिव्यक्त 428 17

कथित 430.16

सूक्ति 434.2

## संभाषिता

### संभाषिता

- भाषण दाता 430.23  
**संभाषी**  
 कथन कर्ता 430 18  
 भाषा भाषी 421 31  
 वार्तालाप कर्ता 435 24  
**संभाष्य**  
 कथनीय 430 17  
 भाष्य 427 11  
**संभिन्न**  
 विलग्न 1011 5  
**संभुक्त**  
 अनुभूत 283 10  
 भुक्त 363.13  
**संभूत**  
 अस्तित्वशाली 246 11  
 उत्पन्न 546 9  
 घटित 75 11  
 जन्मा [जन्मी] 248.10  
 भूतपूर्व 65 3  
 व्यतीत 74 3  
**संभूतता**  
 भूतता 65 1  
**संभूत होना**  
 अस्तित्व होना 246 8  
**संभूति**  
 अस्तित्व 246 1  
 अस्तित्व धारण 246 2  
 उत्पत्ति 546.5  
 ऋषि स्त्री सूची 789 25  
 एकीभवन 698 4  
 कृत्तिका सूची 774 31  
 जन्म 248 1  
 जीवन 246 6  
**संभूतिशील**  
 अस्तित्वशाली 246.11  
**संभूय**  
 एकतापूर्वक 698 12  
 समूहत 690 14  
**संभूत**  
 आनीत 1053 10  
 उत्पादित 546 12  
 भरा [भरी] 1004.12  
 संचित 645.9  
 संबरित 667 18  
**संभूति**  
 सबरण 667.5  
 सन्नद्धता 491.4  
**संभूट**  
 भुना मांस 206.18  
**संभेद**  
 कोटि 936.1  
 परस्पर अनिर्वाह 703 4  
 भेद नीति 819 7  
 विघटन 544 1  
**संभेद्यक**  
 बरमा 559.49

### संभेद्यकारी

- एकता भंग कर्ता 699 15  
**संभेदन**  
 विच्छेदन 543 11  
 विलानन 1011 1  
**संभेदी**  
 गुप्तघर 866 12  
**संभेष**  
 वेद्य 518.19  
**संभोक्ता**  
 भोगी 363 15  
**संभोग**  
 अधिभोग 622.1  
 उपभोग 524 1  
 भोग 750 15  
 रति संयोग 237 10  
 विलास 363 6  
**संभोगी**  
 उपभोक्ता 524.16  
 व्यभिचारी 806 10  
**संभोग्य**  
 भोग्य 363 14  
**संभ्रम**  
 आश्चर्यचकित 379.2  
 उद्दिग्धता 377.4  
 परिक्रमा 1033 3  
 भूल 498 3  
 भ्रम 342.1  
 भ्रम दर्शन 342 3  
 लक्ष्य भ्रम 931 13  
 सादृश्य आभास 309 4  
 स्मृति विभ्रम 357 2  
**संभ्रमण**  
 आमोद यात्रा 1085 6  
 परिधि चक्रण 1033.2  
**संभ्रमि**  
 एक चक्रावृत्ति 1033.13  
**संभ्रमित**  
 आश्चर्यित 379 8  
 उद्दिग्ध 377 13  
 भ्रमित 342 10  
 लक्ष्य भ्रमित 931.24  
**संभ्रमी**  
 परिक्रमणशील 1033.20  
**संभ्रान्त**  
 उच्छ्वसित 625.7  
**संभ्रान्ति**  
 भूल 498.3  
 संदेह 341.3  
**संभ्राजिष्णुता**  
 मय्य दृश्यता 402.2  
**संभ्रामक**  
 दुर्विधाजनक 501.9  
 भ्रामक 342 11  
**संभ्रामी**  
 चक्रायक 1033.19  
 परिक्रमणशील 1033.20

### संमाता

- अभिमाता 720.13  
**संयता**  
 कार्याध्यक्ष 652 17  
 विलास 870 23  
 नियंत्रक 899.12  
 नियत कर्ता 68.17  
 प्रबंधक 655.9  
 संचालक 655.16  
**संयंत्र**  
 संयंत्र 558.13 ⇨  
**संयंत्र गृह**  
 यंत्रालय 558.12  
**संयंत्रण**  
 आबद्धन 1013.1  
 नियंत्रण कर्म 899.11  
 यंत्रण 391.14  
**संयंत्रित**  
 आबद्ध 1013.22  
**संयंत्री**  
 अनुशासक 893 16  
 अभियांत्रिक 558 15  
 तंत्र साधक 758.4  
 मरम्मत कर्मी 538.9  
 यंत्र निर्माता 558 17  
**संयंत्रीकरण**  
 यंत्रीकरण 1046 5  
**संयंत्रीय**  
 यंत्रीय 558 23  
**संयत**  
 अनुबधित 339.32  
 जितेन्द्रिय 364.14  
 तय (सौदा) 658 14  
 नियंत्रित 899.24  
 निर्धारित 328.14  
 व्यवस्थित 893.13  
 संयमित 808 16  
 संयमी 808.17  
 स्थिरचित्त 355.6  
**संयतता**  
 स्थिरचित्तता 355.2  
**संयत होना**  
 संयम पालना 808.11  
**संयतारणा**  
 जितेन्द्रिय 364.14  
 संयमी 808.17  
 स्थिरचित्त 355.6  
**संयताहार**  
 डायटिंग 182.8  
**संयताहारी**  
 अल्पाहारी 182.16  
**संयतैन्द्रिय**  
 जितेन्द्रिय 364.14  
**संयत**  
 प्रवृत्तिशील 502.9  
 सन्नद्ध 491.16  
**संयम**  
 अध्यवसाय 489.4

### इन्द्रिय निग्रह 364.4

- तपस्या 756.21  
 धर्म कर्म 747.1  
 ध्यान 331.1  
 ध्यानयोग 756.9  
 नियंत्रण 899 10  
 भोग त्याग 364.3  
 मद्यत्याग 209.27  
 मानवीयता 733 3  
 संयम 808.8 ⇨  
 सुपध्याहार 182 9  
**संयमन**  
 आबद्धन 1013.1  
 उत्थापन 1030.2  
 दमन 911.4  
 नियंत्रण कर्म 899.11  
 यंत्रण 391 14  
 साधना 303 7  
**संयम न बरतना**  
 संयम न बरतना 809.5 ⇨  
**संयमनी**  
 यम नगर 256.5  
**संयम पालना**  
 संयम पालना 808.11 ⇨  
**संयम बरतना**  
 संयम पालना 808.11  
**संयम भंगकारी**  
 संयम भंगकारी 809.10 ⇨  
**संयमशील**  
 संयमी 808.17  
 स्थिरचित्त 355.6  
**संयमशीलता**  
 स्थिरचित्तता 355.2  
**संयमहीनता**  
 कुपध्याहार 182.8  
**संयमित**  
 एकत्रित 667 12  
 नियंत्रित 899.24  
 संयमित 808.16 ⇨  
**संयमित भोजन**  
 सुपध्याहार 182.9  
**संयमित होना**  
 संयम पालना 808.11  
**संयमी**  
 अल्पाहारी 182.16  
 इन्द्रिय निग्रही 364.13  
 ऋषि 789.2  
 यति 790.8  
 संयमी 808.17 ⇨  
**संयमी होना**  
 संयम पालना 808.11  
**संयाचक**  
 समर्थन याचक 329.28  
**संयाचना**  
 समर्थन याचना 329.5  
**संयात्रा**  
 समृद्ध यात्रा 1067.17

संयान  
शव वाहिका 1070 13

संयुक्त  
एकीकृत 698 10  
झला [झली] 565 25  
पंचायती 892.12  
मिला [मिली] 389 8  
युतियुक्त 1010 24  
संबंधित 715.12

संयुक्त 1010.22 ⇨  
-संयुक्त  
सहित: प्रत्यय सूची 1006 5

संयुक्त  
साझे का 821.27  
सामूहिक 690 13

संयुक्त अक्षर  
संयुक्त अक्षर 410 5 ⇨

संयुक्तक (प्र)  
योगिक 1008.10

संयुक्त कर्ता  
संयुक्त कर्ता 1010.23 ⇨

संयुक्ततः  
संलग्नतः 1010.26

संयुक्तता  
अभिभक्तता 698 6

संयुक्तता 1010.8 ⇨  
संलग्नता 1010.2

सटापन 31 2  
सामूहिकता 690 2

संयुक्त परिवार  
संयुक्त परिवार 726 6 ⇨

संयुक्त प्रांत (पूर्वना.)  
उत्तर प्रदेश 28.17

संयुक्त राष्ट्र संघ  
संयुक्त राष्ट्र संघ 443.16 ⇨

संयुक्त होना  
संयुक्त होना 1010.17 ⇨

संयुक्ता  
संयोगिनी 389.11

संयुक्तक्षर  
संयुक्त अक्षर 410.5

संयुक्तीकरण  
एकीकरण 698.3

संयोजन 1010.10  
संयुक्तीकृत

एकीकृत 698.10  
संयुजन

एकीकरण 698.4  
संघटन 545 1

संयुजन 1010.9 ⇨  
संलग्नन 1010.1

संयोजित  
संयुक्त 1010.22

संयुक्त  
युतियुक्त 1010.24

संयुक्त  
संयुक्त 1010.22

संयुक्ति  
संघटन 545.1

संयुक्ति 1010.7 ⇨  
संयुक्ति स्थल  
संयुक्ति स्थल 1010.11 ⇨  
संयोग

अप्रत्यक्षित घटना 75.6  
उपयुक्त अवसर 70.3

ग्रहयोग 261 28  
जोड़ फल 954.3

प्रिय संयोग 389 3  
मिलन 389.1

रसानुभूति 455 4  
विवाह संकेत 724.1

सघटन 545.1  
संघ 715 1

सयुक्ति 1010 7  
सयोग 69 1 ⇨

संयोगपूर्ण  
संयोगपूर्ण 69 9 ⇨

संयोगवश  
सयोगवश 69 12 ⇨

संयोगवश होना  
संयोगवश होना 69.8 ⇨

संयोग शृंगार  
प्रिय संयोग 389.3

सयोग शृंगार 455.22 ⇨  
संयोग सुख

सयोग सुख 389.4 ⇨  
संयोग से

संयोगवश 69.12  
संयोगिता

सयुक्तता 1010.8  
सयोगिनी 389.11

संयोगिनी  
संयोगिनी 389.11 ⇨

संयोगी  
संपर्गागत 703 11

संयोगी 389.10 ⇨  
संयोजक

आयोजक 655.19  
मिलाने वाला 389.9

योजक चिह्न 425.37  
योजन निर्माता 520.3

संयुक्त कर्ता 1010.23  
संयोजक 693.15 ⇨

संलग्न कर्ता 1010.20  
संयोजन

आयोजन 655.3  
एकीकरण 698.3

मिलाई 389.2  
संघटन 545.1

संयोजन 693.4 ⇨  
संयोजन 1010.10 ⇨

संरलेषण 427.20  
संस्थापना 693.1

समारोह 694.15  
समावेश 1002.1

संयोजन (बै.)  
संलग्नन 1010.1

संयोजना  
निर्माण परिकल्पना 599.15

संयोजित  
आयोजित 655 18

एकीकृत 698.10  
क्रमिक 991.21

मिला [मिली] 389.8  
युतियुक्त 1010.24

योजित 520.17  
संयुक्त 1010.22

संयोजित करना  
संयोजित करना 693.8 ⇨

संरंभ  
प्रगाढ़ता 81.1

संरक्षक  
अभिपिता 720 12

पालक पोषक 720.20  
रक्षक 908.20

शरण दाता 910.13  
संकट मोचक 910 10 ⇨

संरक्षक 908.26 ⇨  
संरक्षणपूर्ण सहायक 700.27

संवर्धक 979 28  
संरक्षण

अभिभावक कर्म 720 11  
उत्थापन 1030.2

क्रय आरक्षण 660 11  
पहरेदारी 908.8

पालन पोषण 720.1  
रोधन 920.5

संरक्षणपूर्ण सहायक  
संरक्षणपूर्ण सहायक 700.27 ⇨

संरक्षणपूर्ण सहायता  
संरक्षणपूर्ण सहायता 700.13 ⇨

संरक्षणपूर्ण सहायता करना  
संरक्षणपूर्ण सहायता करना 700.18 ⇨

संरक्षणहीन  
अभिभावकहीन 719.9

संरक्षणहीनता  
अभिभावकहीनता 719.4

संरक्षा  
रक्षा 908 1

शरण 910.4  
संरक्षा 908.3 ⇨

संरक्षिका  
अभिमाता 720.13

संरक्षित  
आरक्षित 660.20

रक्षित 908.19  
संकटयुक्त 910 9

संघित 645.9  
संबंधित 979.25

सुरक्षित 908.27  
संरक्षित [संरक्षिता]

अभिमायिता 720.26  
संरक्षित बालक

अभिपुत्र 720.15  
अभिसंतान 720.14

संरक्षित बालिका  
अभिपुत्री 720.18

संरक्षिता  
अभिपिता 720.12

संकट मोचक 910.10  
संरक्षक 908 26

संरक्षी  
पालक पोषक 720.20

संरचना  
रचना कर्म 527 1

रचना विन्यास 527.8  
संरचन

ध्यान 331.2  
संरसाक

संरसाक 667.17 ⇨  
संरसान

संरशािकरण 667.4  
संरशािकरण

संरशािकरण 667.4 ⇨  
संरशाित

संरशाित 667.16 ⇨  
संरशाित करना

संरशाित करना 667.10 ⇨  
संरशाित (बीज रूप)

संयुक्त राष्ट्र संघ 443.16  
संरक्ष

धेराबंद 914.23  
संरक्षि

रुष्टि 374.2  
संरधि

ढक्कन 675.6  
प्रतिरोध 915.1

संरोधन  
दमन 911 4

रोधन 920.5  
संरोधित

प्रतिरोधित 915.10  
प्रवेश विधि 1094.28

रोधित 920.21  
संरोधित (प्र)

इंजुलेटर 102.16  
संरोधी

अवरोधक 1047.28  
रोधक 920.22

संरोह  
पल्लवन 117.7

संरोहण  
पल्लवन 117.7

शाखन 117.6  
संरक्षण

अनुमानन 308.9  
अभिज्ञान 356.11

प्रेक्षण 284.25  
सक्षण 317.5

संरक्षित  
अनुमानित 308.20

अभिज्ञात 356.28  
विहित 407.23

## संलक्ष्य

### संलक्ष्य

परिभाष्य 317.19

### संलग्न

आसक्त 365.5  
गुट सापेक्ष 885.40  
टंका (टंकी) 577.30  
तल्लीन 331.14  
नत्थीकृत 417.15  
निकटस्थ 31.7  
प्रवृत्तिशील 502.9  
व्यस्त 502.13  
संग्रहित 573.15  
संलग्न 1010.18 ⇨  
सटा [सटी] 31.8

### संलग्नक

अनुलग्नक 1010.4  
पत्र अनुलग्नक 444.4  
संलग्न कर्ता 1010.20

### संलग्न करना

संलग्न करना 1010.14 ⇨

### संलग्न कर्ता

संलग्न कर्ता 1010.20 ⇨

### संलग्नता:

संलग्नता: 1010.26 ⇨

### संलग्नता

गुट सापेक्षता 885.11  
तल्लीनता 331.6  
परस्परयायता 426.24  
संलग्नता 1010.2 ⇨  
सहितता 1006.1

### संलग्नन

नत्थीकरण 417.13  
संलग्नन 1010.1 ⇨

### संलग्न होना

संलग्न होना 1010.13 ⇨  
संलग्न होना 1013.15 ⇨

### संलग्न होने वाला

संलग्न होने वाला 1010.19 ⇨

### संलय

नीर क्षीर मिश्रण 1008.3

### संलयन

विलयन 21.26

### संलाप

गपशप 435.6  
वार्तालाप 435.1

### संलापी

वार्तालाप कर्ता 435.24

### संलिप्त

आलेपित 292.13  
आसक्त 365.5  
तल्लीन 331.14  
प्रवृत्तिशील 502.9

### संलीन

आसक्त 365.5  
तल्लीन 331.14  
प्रच्छन्न 824.26  
विलयित 21.41  
सम्भिन्न 1008.26

### संलेप

पुलटिस 176.19  
लेप 176.24

### संलेपक

आलेपक 292.12

### संलेपन

आलेपन 292.3

### संवत

कैलेंडर वर्ष 42.9  
वर्ष 42.8  
विक्रमी संवत 42.2  
संवत्सर 42.1

### संवत्सर

कालघट्टः अरे 36.4  
परिक्रमा काल 5.4  
वर्ष 42.8  
विष्णु 788.1  
संवत्सर 42.1 ⇨

### संवत्सर भोग

सीर वर्ष 42.13

### संवत्सर में

संवत्सर में 42.28

### संवत्सर में

संवत्सर में 42.28 ⇨

### संवत्सरीय

वर्षीय 42.27

### संवत्सरे

संवत्सर में 42.28

### संवर

शृंगार 222.1

### संवरक

संवरण कर्ता 667.19  
संवरक 979.26

### संवरण

घयन 1009.2  
संक्षेपण 980.5  
संवरण 667.5 ⇨  
संवरण 979.7

### संवरण करना

संवरण करना 667.11 ⇨

### संवरण कर्ता

संवरण कर्ता 667.19 ⇨

### संवरना

उन्नत होना 534.8  
शृंगार करना 222.14  
सजना 226.10

### संवरना [संवरणी]

परिष्कृत 537.9  
शृंगारित 222.17  
संवरित 667.18  
संवरित 979.25  
सजा धजा [सजी धजी] 226.13

### संवरित

संवरित 667.18 ⇨

### संवरिया

कृष्ण 771.1  
प्रेमी 368.2

### संवरि केश

संवृत केश 223.5

### संवरि

गुणन फल 955.4

### संवरिक

गुणनांक 955.3

### संवरि

गुण्यांक 955.2

### संवरि

संवर्जन 864.1

### संवरि

गोल पिंड 977.1  
वर्षा मेघ 55.5

### संवरिक

आविष्कर्ता 307.18  
घट्टायक 1033.19  
प्रलयान्ति 106.3

### संवरिकी

बलराम 771.74

### संवरिमान

वर्तमान 66.6

### संवरिमानता

वर्तमानता 66.1

### संवरिका

बीड़ी 674.11

### संवरि

घृष्टि 1077.32

### संवरि

घटनशील 75.12

चक्रित 1033.17

वर्तमान 66.6

### संवरि

घटनशील 75.12

### संवरिक

संवरिक 979.26 ⇨

### संवरिन

पालन पोषण 720.1

पोषण 179.1

शक्ति वर्धन 487.3

संवरिन 979.7 ⇨

### संवरिन करना

संवरिन करना 979.14 ⇨

### संवरित

पुष्ट 179.21

संवरित 979.25 ⇨

### संवरिन

सम्मिश्रण 1008.12

### संवरलय

त्वचा वलय 134.8

वलय 975.9

### संवरित

लिपटा [लिपटी] 575.12

### संवरि

वशाधीन 901.9

### संवरि

वायु 85.1

वायु सूची 85.2

### संवरिन

संचालन 655.1

### संवरितक

पंखा 85.27

### संवरि

नाटक संवाद 465.1  
परकामण 658.8  
परिचर्चा 436.3  
प्रेषित समाचार 445.18  
वार्तालाप 435.1  
संदेश 443.1  
समाचार 440.1

### संवाद अलंकार

स्वर अलंकार 465.10

### संवरि उच्चारण

संवाद उच्चारण 465.8 ⇨

### संवरि उच्चारणः क्यु

क्यु 465.9

### संवरिदाता

संज्ञापक 441.20  
संपादक सूची 445.16  
संपादक सूची 445.16  
संवाददाता 445.22 ⇨

### संवरिदाता कर्म

समाचार प्रेषण 445.17

### संवरिदरता

अभिमुखता 1023.1

### संवरि सम्मेलन

समाचार सम्मेलन 445.19

### संवरिक

वार्तालाप कर्ता 435.24

### संवरित

वादिता 461.105

### संवरि

अभियोक्ता 875.5

कथन कर्ता 430.18

कथा उद्घोषक 467.3

कथा वाचक 749.19

घोषक 441.23

प्रवक्ता 441.25

वाद प्रस्तोता 324.9

संबोधन कर्ता 430.26

### संवरि

निवारण 920.4

### संवरि

परिष्कार 537.1

संवरिन 979.7

### संवरि

संवृत उच्चारण 411.6

### संवरिक

प्रतिरक्क 908.24

रोधक 920.22

### संवरि

निवारण 920.4

### संवरिणीय

निवार्य 920.19

### संवरि

कफाई करना 577.27

तह करना 975.24  
 परिष्कार करना 537.7  
 व्यवस्थापित करना 893.8  
 शृंगार कर्म करना 222.15  
 शोभान्वित करना 226.8  
 सवरण करना 867.11  
 सवर्धन करना 979.14  
**सैवारा [सैवारी]**  
 सवर्धित 979.25  
**संवारित**  
 निवारित 920.17  
**संवार्य**  
 निवार्य 920.19  
**संवासित**  
 गद्ययुक्त 273.13  
 सुवासित (आहार) 281.41  
**संवाह**  
 बाढ़ निकास 23.2  
 बाढ़ निकास नाला 23.11  
 वाहक 1061.20  
**संवाहित**  
 गत्वहित 1046.21  
 प्रवाहित 1041.7  
**संवाहिता**  
 वाहक 1061.20  
 सचालक 655.16  
**संवाहित्र (प्र)**  
 कनवैक्टर 85.30  
**संवाहिनी**  
 बटालियन 932.28  
**संवाही**  
 पहुँचाने वाला 1053.17  
 प्रवाहशील 1041.8  
**संवाहय**  
 वाहनीय 1061.19  
**संविधि**  
 सर्व सहमति 337.4  
 स्मृति 356.1  
**संविद्य**  
 सौदा 658.3  
**संविद्य पत्र**  
 संधि पत्र 906.6  
**संविदा**  
 अनुबंध 339.1  
 संविदा 339.3  
**संविदित**  
 अनुबंधित 339.32  
 सहमत 337.19  
 सहमति प्राप्त 337.20  
**संविधा**  
 योजना 520.1  
 व्यवस्था 893.5  
**संविधाता**  
 नियत कर्ता 88.17  
 ब्रह्मा 786.1  
 रचेता 527.14  
 सृष्टि रचेता 529.5

**संविधात्री**  
 विधायिका 881.26  
**संविधान**  
 विधि सहिता 878.6  
 सविधान 878.16  
**संविधान असम्मत**  
 संविधान असम्मत 878.30  
**संविधान असम्मतता**  
 असंवैधानिकता 878.18  
**संविधानक**  
 कथावस्तु विकास 466.8  
**संविधानन**  
 विधायन 878.21  
**संविधान परिषद**  
 सविधान परिषद 889.7  
**संविधान विषयक**  
 सविधानीय 878.28  
**संविधान व्याख्याता**  
 विधिज्ञ 878.13  
**संविधान सभा**  
 सविधान परिषद 889.7  
**संविधान सम्मत**  
 सविधान सम्मत 878.29  
**संविधान सम्मतता**  
 संवैधानिकता 878.17  
**संविधानीय**  
 सविधानीय 878.28  
**संविधायक**  
 परिषद सदस्य 889.8  
 विधायक 878.22  
 व्यवस्थापक 893.  
**संविधायम**  
 विधायन 878.21  
**संविधायिका**  
 विधायिका 881.26  
**संविधायित**  
 विधायित 878.31  
**संविधि**  
 धर्म विधि 747.3  
**संविधेय**  
 कार्यान्वयनीय 505.25  
**संविभक्त**  
 सुडील 155.4  
**संविभाग**  
 खंड 938.1  
 विभाग 937.3  
 सभाग 937.1  
 साझा 621.6  
**संविभागित**  
 संभागीकृत 937.10  
**संविभाजन**  
 विभाजन 699.3  
**संविवाद**  
 विवाद 324.1  
**संविवाद**  
 अवसादानुभूति 353.5  
**संविद्य**  
 आसीन 1028.10

निकट आसीन 1028.11  
**संविहार**  
 बेहलक्रदमी 1084.7  
**संविहित**  
 निदेशित 347.16  
 नियमानुकूल 879.18  
 विधायित 878.31  
 वैद्य 878.26  
 व्यवस्थित 893.13  
 संविधान सम्मत 878.29  
**सवीक्षक**  
 निरीक्षक 284.17  
**संवीक्षण**  
 परीक्षण 322.10  
**संवीत**  
 व्यतीत 74.3  
**संयुत**  
 मुकुलित 120.8  
 सग्रहित 669.19  
 संवरित 667.18  
**संयुत उच्चारण**  
 संयुत उच्चारण 411.6  
**संयुत केश**  
 संयुत केश 223.5  
**संयुत स्वर**  
 भिद्य कठ 459.37  
**संयुद्ध**  
 पूर्ण विकसित 534.15  
 वर्धित 979.20  
**संयुद्धि**  
 उन्नति 534.1  
 वृद्धि 979.4  
**संयेशा**  
 तथ्यान्वेषण 336.1  
**संयैग**  
 गति वैग माप 958.25  
 हुतता 1044.1  
 प्रबलता 487.6  
 प्रवाह 1041.1  
 रोग विस्तार 163.12  
 वैग 1042.9  
 संयैग 1042.10  
**संयैग माप**  
 गति वैग माप 958.25  
**संयैग मापी**  
 वैग मापी 958.28  
**संयैद**  
 भाव 358.1  
 यथार्थ ज्ञान 781.8  
**संयैवक**  
 अभिव्यक्ति कर्ता 428.18  
**संयैदन**  
 अभिव्यक्ति 428.1  
 विवेचन 427.14  
 संयैदना 393.1  
**संयैदनशील**  
 संयैदनशील 393.18

**संयैदनशीलता**  
 भावुकता 358.16  
 संयैदनशीलता 393.2  
**संयैदनहीन**  
 अवसन्न 264.22  
**संयैदना**  
 अनुभूति 263.1  
 मनोव्यथा 391.7  
 संयैदना 393.1  
 सहभावना 352.15  
 सहानुभूति 393.3  
 साधारणीकरण 399.16  
 स्पर्श अनुभूति 269.1  
**संयैदनापूर्ण**  
 भावुक 358.26  
**संयैदनापूर्ण रुदन**  
 सहरुदन 386.2  
**संयैदनाहीन**  
 अभावुक 358.30  
**संयैदयिता**  
 सहानुभूति कर्ता 393.19  
**संयैदित**  
 अनुभूत 263.10  
 अभिव्यक्त 428.17  
**संयैद्य**  
 ज्ञान योग्य 305.42  
**संयैश**  
 आप्रवेश 1002.2  
 पार्श्व भूमि 997.4  
**संयैशान**  
 निकट आसन ग्रहण 1028.2  
 प्रविष्टायन 1094.4  
**संयैशित**  
 निकट आसीन 1028.11  
**संयैधानिक**  
 संविधान सम्मत 878.29  
 सविधानीय 878.28  
**संयैधानिकता**  
 संवैधानिकता 878.17  
**संयैव्यवहार**  
 आदान प्रदान संबन्ध 636.2  
 व्यवहार 703.2  
 संगति 696.1  
**संयैव्यवहृत**  
 प्रचलित 514.16  
**संयैशित**  
 प्रशंसित 841.29  
**संयैश्री**  
 प्रशंसक 841.31  
**संयैशपथ**  
 शपथ 339.20  
**संयैशय**  
 आशंका 377.1  
 जोखिम 519.5  
 दुश्चिन्ता 501.1  
 संदेह 341.3  
**संयैशयप्रस्तता**  
 दुश्चिन्ताप्रस्तता 501.2

## संशयपूर्ण

**संशयपूर्ण**  
 संदिग्ध 341.9  
**संशयवाद**  
 अज्ञेयवाद 760.6  
 स्याद्वाद 737.5  
**संशयशील**  
 दुबिधाग्रस्त 501.8  
**संशयहीन**  
 अनाशक्ति 378.7  
 दुबिधाहीन 500.13  
**संशयहीनता**  
 अनाशंका 378.1  
 दुबिधाहीनता 500.4  
**संशयात्मक**  
 दुबिधाजनक 501.9  
 संदिग्ध 341.9  
**संशयात्मा**  
 सदेहशील 341.10  
**संशयासु**  
 सदेहशील 341.10  
**संशयी**  
 दुबिधाग्रस्त 501.8  
 संदेहशील 341.10  
**संशासन**  
 अनुशासन 893.4  
**संशितात्मा**  
 अविघ्न 500.15  
 दृक्प्रतिज्ञ 339.45  
**संशित**  
 पुरा अवशेष 77.2  
**संशीतक**  
 शीतलक 105.22  
**संशीतन**  
 शीतलन 105.2  
**संशुद्धि**  
 कैथारिसिस 399.15  
**संशोध**  
 भुगतान 634.3  
**संशोधक**  
 विशोधन कर्ता 219.10  
 संशोधक 537.12 ⇌  
**संशोधन**  
 विशोधन 219.1  
 संशोधन 537.4 ⇌  
 सम्भीकरण 733.2  
**संशोधन करणा**  
 संशोधन करणा 537.8 ⇌  
**संशोधनवादी**  
 सुधारवादी 344.8  
**संशोधन विरोधी**  
 आदि सिद्धांतवादी 343.20  
**संशोधित**  
 अनुसंधानित 307.15  
 नवीकृत 64.13  
 संशोधित 537.11 ⇌  
**संशयान**  
 सधन 81.15

**संशयानित्र (प्र)**  
 फ्रीजर 105.10  
**संश्रय**  
 विश्राम स्थल 1090.19  
**संश्रावक**  
 भोता 293.16  
**संश्रुत**  
 ज्ञात 305.29  
 वचन दत्त 339.40  
**संश्लिष्ट**  
 आलेपित 292.13  
 संदिग्धार्थी 426.34  
**संश्लेष**  
 आसक्ति 365.1  
**संश्लेषण**  
 आलेपन 292.3  
 घिपकाई 1012.2  
 संश्लेषण 427.20 ⇌  
**संश्लेषी**  
 घिपकाऊ 1012.15  
 सलग्न कर्ता 1010.20  
 संश्लेष 1012.6  
**संसक्त**  
 आसक्त 365.5  
**संसक्ति**  
 आसक्ति 365.1  
 प्रवृत्ति 502.1  
**संसद**  
 गोष्ठी 694.4  
 निकट आसन ग्रहण 1028.2  
 निकट आसीन 1028.11  
 संसद 889.1 ⇌  
 संसद भवन 695.7  
 सभा 694.1  
**संसद अयोग्य**  
 संसद अयोग्य 889.25 ⇌  
**संसद आदि**  
 विधायिका 881.26  
**संसद भवन**  
 संसद भवन 695.7 ⇌  
**संसद योग्य**  
 संसद योग्य 889.24 ⇌  
**संसद विषयक**  
 संसद विषयक 889.23 ⇌  
**संसद सदस्य**  
 संसद 889.2  
**संसदीय**  
 संसद योग्य 889.24  
 संसद विषयक 889.23  
 सभा योग्य 694.28  
 सभा विषयक 694.27  
**संसदीय दल**  
 संसदीय दल 885.16 ⇌  
**संस्करण**  
 रंग 1084.18  
**संसर्ग**  
 निकटता 31.1  
 मिलन 389.1

संगति 696.1  
 संपर्क 703.5  
 संयुति 1010.7  
**संसर्गण**  
 रोग संक्रमण 169.8  
**संसर्गी**  
 सर्गी 696.2  
**संसर्प**  
 क्षय मास 43.20  
**संसर्पक**  
 रेगने वाला 1084.48  
**संसर्पण**  
 फिसलन 1084.15  
 रेग 1084.18  
 सरकन 1084.22  
 सीमातिक्रमण 1001.27  
**संसर्पी**  
 प्रसारशील 979.18  
 रेगने वाला 1084.48  
 सरकाने वाला 1084.52  
**संसाधन**  
 उपकरण 558.7  
 संपत्ति 624.1  
**संसाध्य**  
 कार्यान्वयनीय 505.25  
**संसार**  
 गृहस्थी 235.2  
 धर्सेन जगत 121.1  
 जीव जगत 121.3  
 पृथ्वी 9.1  
 ब्रह्मांड 1.1  
 लोक 258.1  
 समूह 690.1  
**संसारः आदि कारण**  
 पुरुष 764.21  
**संसार त्याग**  
 सन्यास प्रवेश 233.8  
**संसार त्यागना**  
 मरना 249.18  
**संसार त्यागी**  
 सन्यासी 790.11  
**संसार देखना**  
 संसार भोगना 363.11  
**संसार बंधन**  
 आवागमन चक्र 246.3  
**संसार भोग**  
 संसार भोग 363.5 ⇌  
**संसार भोगना**  
 संसार भोगना 363.11 ⇌  
**संसार भोगी**  
 संसार भोगी 363.19 ⇌  
**संसार माया है**  
 मायावाद 760.23  
**संसारवाद**  
 इहलोकवाद 780.15  
**संसार ब्यापी**  
 सर्वव्यापक 981.13

**संसार संग**  
 गृहासक्ति 235.7  
**संसारसक्ति**  
 गृहासक्ति 235.7  
**संसारी**  
 आवागमन ग्रस्त 246.12  
 आसक्त 365.5  
 प्रसारशील 979.18  
 व्यवहार कुशल 828.10  
 संसार भोगी 363.19  
**संसिक्त**  
 अति आर्द्र 88.28  
 संसिक्त 1008.29 ⇌  
 संसिक्त 548.55  
**संसिक्तता**  
 संसिक्तता 1008.16 ⇌  
**संसिक्तन**  
 संसिक्तन 1008.15 ⇌  
**संसिक्त मिश्रण**  
 संसिक्त मिश्रण 1008.4 ⇌  
**संसिक्त होना**  
 संसिक्त होना 1008.23 ⇌  
**संसिक्तिक**  
 संसिक्त मिश्रण 1008.4  
**संसिद्ध**  
 प्रमाणित 327.9  
 वशीकृत 758.41  
 सिद्ध 779.17  
**संसिद्धि**  
 परिपाचन 195.19  
 वाद सिद्धि 877.1  
 साधु सिद्धि 790.29  
**संसुप्ति**  
 गहन निद्रा 266.3  
**संसुविधा**  
 प्रसुविधा 643.28  
**संसूचन**  
 संज्ञापन 441.7  
**संसूचना**  
 संसूचना 441.6 ⇌  
**संसृति**  
 जीव जगत 121.3  
**संसृष्ट**  
 एकीकृत 698.10  
 धिर परिचित 704.23  
 प्रविष्टित 1094.25  
 प्रसंस्कृत 527.20  
 संक्रमित 169.13  
**संसृष्टि**  
 जीव जगत 121.3  
 रचना कर्म 527.1  
**संसेक**  
 छिद्रकाव 688.7  
**संसेवा**  
 परिचर्या 651.6  
**संस्करण**  
 पत्र पत्रिका पुस्तकः संस्करण 445.  
 परिष्करण 537.2

प्रसंस्करण 527.7  
 विशोधन 219.1  
 सशोधन 537.4  
 सम्यीकरण 733.2  
**संस्कारता**  
 परिष्कारक 537.10  
 विशोधन कर्ता 219.10  
**संस्कार**  
 ईसाई संस्कार 798.30  
 उप संपादन 445.12  
 जन्मजात ज्ञान 305.9  
 जातीय ज्ञान 305.10  
 जीर्णोद्धार 598.11  
 परंपरा 795.1  
 परिष्कार 537.1  
 पूर्व कर्म 260.8  
 प्रभाव 511.1  
 प्रसंस्कार 527.6  
 विशोधन 219.1  
 शिक्षा 321.1  
 सशोधन 537.4  
 संस्कार 798.1 ⇨  
 सम्यीकरण 733.1  
 स्मृति 356.1  
**संस्कारक**  
 विशोधन कर्ता 219.10  
 सुवास्य 281.2  
**संस्कार करना**  
 परिष्कार करना 537.7  
 संस्कार करना 798.34 ⇨  
**संस्कार कर्ता**  
 संस्कार कर्ता 798.40 ⇨  
**संस्कार देना**  
 सम्य करना 733.11  
**संस्कार नाम**  
 नामकरण- नाम 315.10  
**संस्कारपूर्वक**  
 संस्कारपूर्वक 798.49 ⇨  
**संस्कार प्रदान**  
 सम्यीकरण 733.2  
**संस्कारयुक्तता**  
 सम्यीकरण 733.1  
**संस्कार विषयक**  
 संस्कार विषयक 798.39 ⇨  
**संस्कारहीन**  
 असम्य 734.14  
**संस्कारहीनता**  
 असम्यता 734.1  
**संस्कारहीन भाषा**  
 अपभाषा 433.2  
**संस्कार हृत होना**  
 असम्य बनना 734.11  
**संस्कारित**  
 परिष्कृत 537.9  
**संस्कारिय**  
 संस्कार विषयक 798.39  
 सम्यता विषयक 733.12

**संस्कृत**  
 अलंकृत 227.4  
 उन्नत 534.10  
 कलापूर्ण 402.3  
 परिष्कृत 537.9  
 प्रसंस्कृत 527.20  
 शिक्षित 321.41  
 शोभायुक्त 226.11  
 संस्कृत भाषा 421.6  
 सम्य 733.13  
**संस्कृत करना**  
 परिष्कार करना 537.7  
 सम्य करना 733.11  
**संस्कृत भाषा**  
 संस्कृत भाषा 421.6 ⇨  
**संस्कृति**  
 सम्यीकरण 733.2  
**संस्कृतिहीनता**  
 असम्यता 734.1  
**संस्कृतीय**  
 सम्यता विषयक 733.12  
**संस्कृतिया**  
 प्रसंस्कार 527.6  
**संस्तंभ**  
 दृढ़ आधारण 1019.7  
**संस्तंभन**  
 स्तंभन 758.29  
**संस्तर**  
 तह 975.15  
 भूगर्भ संस्तर 9.7  
 भू परपटी 9.9  
 सस्तर 990.1 ⇨  
**संस्तर (दे.)**  
 तल 985.1  
**संस्तरण**  
 तह कर्म 975.16  
 संस्तरण 990.2 ⇨  
 समतलन 986.2  
**संस्तरित**  
 संस्तरित 990.30 ⇨  
**संस्तरित करना**  
 संस्तरित करना 990.28 ⇨  
**संस्तवन**  
 अभिनंदन 854.8  
 प्रशंसन 841.4  
**संस्तवान**  
 उद्गाता 753.13  
**संस्तारण**  
 तह कर्म 975.16  
 विछाई 592.4  
**संस्ताव**  
 स्तोत्र 741.16  
**संस्तुत**  
 इच्छित 359.19  
 पूजित 751.23  
 प्रशंसित 841.29  
 सिद्धारिणी 841.37

**संस्तुति**  
 पूजा 751.1  
 स्तोत्र 741.16  
**संस्तुत्य**  
 प्रशंसनीय 841.30  
**संस्थान**  
 सघनन 81.3  
 स्कंदन 81.5  
 स्कंदित 81.17  
**संस्थ**  
 आधारित 1019.17  
 आसीन 1028.10  
 स्थित 1020.8  
**संस्था**  
 कार्यालय 654.3  
 मंडली 691.5  
 संस्था 692.1 ⇨  
**संस्था (दे.)**  
 समाज 688.1  
**संस्था अध्यक्ष**  
 संस्था अध्यक्ष 692.2 ⇨  
**संस्थागार**  
 सभागार 695.1  
**संस्था: धन**  
 गण निधि 628.6  
**संस्थाध्यक्ष**  
 व्यापार अध्यक्ष 657.3  
 सभापति 694.18  
**संस्थान**  
 कंपनी 692.4  
 कम्प्यूनिटी हाल 695.3  
 कार्यालय 654.3  
 संस्था 692.1  
 संस्था 692.3 ⇨  
**संस्थानीय**  
 संस्थानीय 692.31 ⇨  
**संस्थापक**  
 संस्थापक 693.10 ⇨  
**संस्थापकवादी**  
 आदि सिद्धांतवादी 343.20  
**संस्थापन**  
 अनुमोदन 329.2  
 आधारण 1019.5  
 विधायन 878.21  
 स्थितन 1020.3  
**संस्थापना**  
 प्रतिपादन 326.1  
 संस्थापना 693.1 ⇨  
**संस्थापना करना**  
 संस्थापित करना 693.5  
**संस्थापना कर्म**  
 संस्थापना 693.1  
**संस्थापयिता**  
 संस्थापक 693.10  
**संस्थापित**  
 प्रतिपादित 326.14  
 प्रविष्टित 1094.25  
 संस्थापित 693.9 ⇨

**संस्थापित करना**  
 संस्थापित करना 693.5 ⇨  
**संस्थाय**  
 आधारणीय 1019.18  
**संस्था विषयक**  
 संस्थानीय 692.31  
**संस्था संचालक**  
 संस्था अध्यक्ष 692.2  
**संस्था संचालन**  
 संचालन 655.1  
**संस्था स्थापना**  
 संस्थापना 693.1  
**संस्थित**  
 अनुसिद्धित 1020.12  
 आधारित 1019.17  
 आसीन 1028.10  
 वैयंशील 394.15  
 प्रबंधित 655.23  
 प्रवाहहीन 1041.9  
 प्रवृत्तिशील 502.9  
 संस्थापित 693.9  
 समाप्त (कार्य) 522.4  
 स्थावर 1038.7  
 स्थित 1020.8  
**संस्थितता**  
 आधारितता 1019.1  
 स्थावरता 1038.1  
 स्थितता 1020.2  
**संस्थिति**  
 अंत 985.1  
 स्थावरता 1038.1  
 स्थिति 1020.1  
**संस्पर्शी**  
 ईर्ष्यालु 709.6  
**संस्पर्श**  
 निकट आगमन 1093.4  
 मार्ग संगम 1098.12  
 संयुति 1010.7  
 स्पर्श 289.2  
**संस्पर्शी**  
 संपर्कागत 703.11  
 सटा [सटी] 31.8  
**संस्पृष्ट**  
 स्पृशित 289.14  
**संस्फुरण**  
 स्फुरण 1039.6  
**संस्वरण**  
 व्यक्ति वर्णन 449.6  
 संस्वरण 356.7 ⇨  
 संस्वरण 450.19 ⇨  
 स्वरण 356.2  
 स्मृति लाम 356.10  
**संस्वरण लेख**  
 संस्वरण 450.19  
**संस्वरणीय**  
 अविस्मरणीय 356.20  
**संस्मारक**  
 स्मारक 77.12

## संस्मारण

स्मारण कर्ता 356 27  
**संस्मारण**  
 स्मारण 356 8  
**संस्मारिका**  
 कार्यक्रम सूची 993.2  
 ब्रौरयर 442 9  
**संस्मृत**  
 धर्म सम्मत 735 12  
**संस्मृत न होना**  
 स्मृत न होना 357 6  
**संस्मृति**  
 सस्मरण 356 7  
 स्मृति ग्रंथ 740 55  
**संस्मृत**  
 तल्लीन 331 14  
**संस्मृतित**  
 स्मृतित 83 16  
**संस्मृष्टा**  
 सम्मिश्रक 1008 27  
**संस्त्राव**  
 गर्भपात 241 6  
 आवण 83 4  
**संस्त्रावण**  
 आसवन 82 1  
**संस्त्रीकरण**  
 कनफेशन 751 19  
**संस्त्रीकर्ता**  
 अपराध स्त्रीकर्ता 876 28  
**संस्त्रीकृति**  
 अपराध स्त्रीकृति 876 9  
**संस्त्रेदन**  
 प्रस्त्रेदन 215 4  
**संस्त्र**  
 एकत्रित 667 12  
 मिला [मिली] 389 8  
 संराशित 667 16  
 संलग्न 1010 18  
**संस्त्रसं**  
 अजलि पात्र 150.3  
**संस्त्रित**  
 सघन अवस्था 79 8  
 सटापन 31 2  
**संस्त्रतीय**  
 राशि विषयक 686 21  
**संस्त्ररण**  
 भंडारण 670.1  
 सक्षेपण 980 5  
 साराशन 449 13  
**संस्त्रर्ता**  
 वध कर्ता 251.27  
**संस्त्रर्ष**  
 आनंद 382 1  
 रोमाच 382 6  
**संस्त्रर्षक**  
 रोमाचक 382.22  
**संस्त्रर**  
 असुर वध 251 4  
 उपसहार 466 18

कार्य समाप्ति 522 1  
 नाटक फलागम 466 16  
 नाश 531 1  
 प्रलय 530 1  
 मंडली 691 5  
 मृत्यु 249 1  
 वध 251 3  
 साराश 449 12  
 साराशन 449 13  
**संहारक**  
 एकत्रक 667 13  
 नाशक 531 8  
 विध्वंसक शस्त्र 922 6  
 संक्षिप्त कर्ता 980 25  
 सारांश कर्ता 449 31  
**संहारकता**  
 नाशकता 531 2  
**संहार कर्ता देवता**  
 भव 767 28  
**संहारकारी**  
 प्रलयंकर 530 8  
**संहारना**  
 नष्ट करना 531.5  
 मारना 251 18  
 वध करना 251 19  
**संहार शैष**  
 शैष वध सूची 767.33  
**संहारी [संहारिणी]**  
 असुर वध कर्ता 251.28  
 वध कर्ता 251 27  
**संहार्य**  
 हंतव्य 251 21  
**संहित**  
 एकत्रित 667 12  
 क्रमिक 991 21  
 पिंडित 81 19  
 भंडारित 670.23  
 सघन 81 15  
**संहित**  
 संहित प्रत्यय सूची 1006.5  
**संहिता**  
 काव्य संकलन 446 24  
 धर्म ग्रंथ 738.1  
 विधि संहिता 878 6  
 संकलन पुस्तक 446 23  
 संग्रह 669 2  
 संहिता 740 47 ⇨  
 सुविध संग्रह 669.6  
**संहिताकार**  
 संकलनकार 446.33  
**संहिति**  
 कोटिकरण 936.5  
**संहित**  
 केद्रित 971 21  
 नष्ट 531.7  
 मुकुलित 120 8  
 संकुचित 980.26  
 संक्षिप्त 980.24

सग्रहित 869 19  
 साराशित 449.30  
**संहिति**  
 खिचन 392.9  
 संकुचन 980.9  
 साराशन 449.13  
**संहिता**  
 दैत्य सूची 783 19  
 हिरण्य कशिपु पुत्र सूची 769 27  
**संहितादक**  
 आनंदप्रद 382.18  
**सः**  
 वह 316.14  
**स**  
 षड्ज स्वर 459 7  
**स-**  
 सहित. उपसर्ग सूची 1006 4  
**सहयो**  
 स्त्री मित्र 705 3  
**सई**  
 अत्यधिकता 944.2  
 बहुविध प्रयत्न 489 3  
 लाभ 646 2  
 समृद्धि 626 1  
 सौभाग्य 260 17  
 स्त्री मित्र 705 3  
**सईइ**  
 कल्याणकारी 710 21  
 सज्जन 817 7  
**सईस**  
 अध्ययन चालक 1079 5  
**सई सिक्कारिषा**  
 चाटुकारिता 841.17  
 बहुविध प्रयत्न 489.3  
**सउजा**  
 आखेटित पशु 252.4  
**सकंटक**  
 संकटप्रद 909 20  
**सकट**  
 संकट चौथ 57.28  
**सकड़ी**  
 शुखला 569.26  
**सकत**  
 क्षमता 487.7  
 संभावना 68 1  
 साध्यता 518.4  
**सकता**  
 मूर्च्छा 264.5  
**सकृता**  
 समाधि. स्थिति 755.5  
**सकृते का आत्म**  
 समाधि. स्थिति 755.5  
**सकना**  
 संभावना होना 68 9  
 सक्षम होना 487.14  
 साध्य होना 518.13  
**सकपकाना**  
 आश्चर्य होना 379.5

उद्धिग्न होना 377.7  
 भयभीत होना 395 13  
 प्रमित होना 342.9  
 हिचकना 501.6  
**सकपकाया [सकपकाई]**  
 आश्चर्यित 379.8  
**सकपकाहट**  
 हिचक 501.3  
**सकर खंडी**  
 ईख शर्करा 280 22  
 खोंड़ 280 13  
**सकरण**  
 इंद्रिययुक्त 268 12  
**सकरणक**  
 शरीरी 139 13  
**सकरा [सकरी]**  
 अशौच (आहार) 198.14  
 उच्छिष्ट 198 11  
 उच्छिष्ट आहार 198 3  
 कच्चा खाना 197 3  
**सकरुणा**  
 दयापूर्ण 834 11  
 दयापूर्वक 834 18  
**सकरुणक**  
 साधन सपत्र 568 19  
 सकर्मक क्रिया  
 क्रिया सूची 425 5  
**सकर्मक ब्रह्म**  
 सगुण ब्रह्म 764 29  
**सकल**  
 अनवशिष्ट 954 18  
 अर्भजित 539 13  
 अविभक्त 698 11  
 आद्योपांत 940.14  
 पूर्णांशिक 940 13  
 प्रत्येक 940 9  
 ब्रह्मांड 1 1  
 सर्व 940 8  
 सर्वांग 153 14  
**सकल जननी**  
 प्रकृति 762.1  
 मूल प्रकृति 762 2  
**सकलता**  
 पूर्णांशता 940 5  
 सर्वता 940.1  
 सामूहिकता 890 2  
**सकलबाध**  
 अद्वैतवाद 760.8  
**सकल संपत्ति**  
 सकल संपत्ति 624.2 ⇨  
**सकल सिद्धिदा**  
 शैरवी सूची 778.14  
**सकल क्षुष्टि**  
 जड़ चेतन जगत 78.1  
**सकलेश्वर**  
 विष्णु 788.1  
**सकलपाय**  
 पापपूर्ण 812.11



सकाम	सकुचीला [सकुचीली]	लोहार 565 15	सखा भाव
इच्छापूर्ण 359.18	सकोची 845 14	सक	मित्र भाव 752 16
प्रयोजनपूर्ण 508 6	सकुचीली [सकुचीली]	सटा [सटी] 31 8	सख्तावत
सकाम कर्म 504 20	लज्जारील 813 11	सकु	दानीत्व 641 2
सकाम कर्म	सकोची 845 14	सकु	सखा विषयक
सकाम कर्म 504 7 ⇨	सकुल	सकु 192 9	मित्रिय 705 25
सकाम कर्म	दलबल सहित 691 8	सक्थि	सखा वृंद
सकाम कर्म 504 20 ⇨	रिश्तेदार 715 6	जौघ अस्थि 133 18	मित्र मडली 705 4
सकामा	सहवशी 727 30	शरीर निम्न भाग 139 6	सखाहीन
मनसिजा 352 5	सकुल्य	सक्युबस (अँ)	मित्रहीन 705 29
सकाय	सपिंड रिश्तेदार 729 8	काम राक्षसी 785 7	सखि
शरीरत 139 16	सकुल्यता	सक्रम	स्त्री मित्र 705 3
साकार ईश्वर 7-4 10	सपिंडता 729 7	कमिक 991 21	सखि भाव
सकारण	सकुशल	सक्रमता	स्त्री भाव 752 19
कारणत 507 7	सुरक्षितत 908 29	कमिकता 991 2	सखिल
कारणयुक्त 507 5	सकूनत	सक्रिय	मित्रतापूर्ण 705 26
प्रयोजनत 508 11	छद यति 452 36	गतिविधिपूर्ण 502 12	सखी
सकारथ	सकृत	जीवित 246 13	दानवीर 641 28
उपयोगी 524 18	समकाल मे 59 4	सचल 1037 19	दानी 641 27
सकारथता	सकृपा	स्फूर्त 491 13	सखी
उपयोगिता 524 6	दयापूर्वक 834 18	सक्रिय ऊर्जा	स्त्री मित्र 705 3
सकारना	सकेद्र धक्र	गतिक ऊर्जा 101 2	सखुआ
अगीकार करना 1002 16	सकेन्द्र धक्र 973 3 ⇨	सक्रियक	साल 13 26
अपराध स्वीकार करना 876 23	सकेतना	ऊर्जायक 101 15	सखेटक
सहमत होना 337 11	सकुचित होना 980 15	गत्वरण कर्ता 1046 22	बालधारी 921 14
स्वीकृति देना 337 10	सकेरना	सक्रिय करना	सख्त
सकारा	अच्छा लाभ कमाना 646 12	अनुप्राणित करना 1046 19	अत्याचारी 835 13
प्रभात काल 47 4	बुहारना 218 31	गत्वरित करना 1046 14	अदम्य 519 28
सकारात्मक	सकुचित करना 980 16	सक्रियण	अनम्य 1050 33
स्वीकारात्मक 337 15	सवरण करना 667	गत्वरण 1046 1	अभजनशील 539 9
सकारात्मकता	सिकोड़ना 980 18	सक्रियता	असमाधान्य 335 12
स्वीकारात्मकता 337 2	सकेरा [सकेरी]	ऊर्जा 101 1	अराहिष्णु 873 13
सकारे	सवरित 667 18	सचलता 1037 3	असह्य 873 14
प्रभात मे 47 21	सकेरु	स्फूर्ति 491 2	कठिन 519 18
सकाल	बुहारने वाला 218 40	सक्रिय होना	कठोर 269 17
प्रभात काल 47 4	सकेलना	प्रयत्न करना 489 5	कठोर व्यवहारी 831 11
समयानुसार 61.5	बुहारना 218 31	सक्रियित	कड़ा [कड़ी] 197 25
सकालता	सग्रह करना 669 18	अनुप्राणित 1046 31	कसा [कसी] 1013 25
समयानुसारता 61 1	सवरण करना 667 11	ऊर्जायित 101 14	चीड़ा [चीड़ी] 197 36
सकाल ब्रह्मांड	सिकोड़ना 980.18	सक्षम	ठोस 269 23
घार आयाम 964 12	सकेला [सकेली]	शक्तिशाली 487 20	तग [परिधान] 583 27
सकिलना	सवरित 667 18	सक्षमता	दुनिवार्य 919.10
सकुचित होना 980 15	सकेरु	क्षमतापूर्वक 487.33	दुर्बोध्य 519.23
सक्रील	बुहारने वाला 218 40	सक्षमता	प्रबल 487.24
कुपाय्य 178.7	सकेलना	क्षमता 487 7	बलिष्ठ 160 10
भारी 963 13	बुहारना 218 31	सक्षम होना	शक्तिशाली 487.20
सकुचन	सग्रह करना 669 18	सक्षम होना 487 14 ⇨	सकटप्रद 909 20
मुकुलित होना 120.5	सवरण करना 667 11	सक्षमा	सुदृढ़ 160.15
सकोच करना 845 9	सिकोड़ना 980.18	क्षमारील 872.11	सख्त कलामी
सिकुड़ना 980.17	सकेला [सकेली]	सखंड	कटु भाषण 432 4
सकुचाई	सवरित 667 18	खंडीय 938.50	घृष्ट भाषण 432 6
सकोच 845 5	सकेरु	सखा	सख्तगीर
सकुचाना	बुहारने वाला 218 40	घेट 467 15	अत्याचारी 835 13
सकोच करना 845.9	सकेलना	नर्म सखिध 467 17	सख्तप्राबाल
सिकुड़ना 980.17	बुहारना 218 31	पुरुष मित्र 705.2	कटुभाषी 432 12
सकुचाइट	सग्रह करना 669 18	संगी 696.2	सख्त ज़बानी
लज्जा 845.1	सिकोड़ना 980.18	साडू 724.43	कटु भाषण 432 4
	सकेला [सकेली]		घृष्ट भाषण 432 6
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		
	सकेलना		
	बुहारना 218 31		
	सग्रह करना 669 18		
	सवरण करना 667 11		
	सिकोड़ना 980.18		
	सकेला [सकेली]		
	सवरित 667 18		
	सकेरु		
	बुहारने वाला 218 40		

## संस्कृतज्ञान

### संस्कृतज्ञान

कठोरहृदय 835.11

### संस्कृतमिजाज

कोधी 373 29

### संस्कृती

अत्याचार 835 3

कठोरता 269 3

कठोर व्यवहार 831 2

निर्दयता 835.2

### संस्कृती से पेश आना

कठोर व्यवहार करना 831 8

### संख्य

नवधा भक्ति सूची 752 6

मित्र भाव 752 16

सौमनस्य 705 18

स्वजन भावना 725 2

### संख्यता

भेदभावहीनता 884 31

मित्रता 705 1

### संगंध

दर्पी 858 13

रिश्तेदार 715 6

### संगड़ी

छोटी बैलगाड़ी 1071 43

### सगण

दलबल सहित 691 8

ससैन्य 932 35

### सगण (115)

वार्षिक गण सूची 452 43

### सगति

गतिशील 1042 11

### सगनीती

शकुन विचार 262 4

### सगबाग

आर्द्र 88 27

द्रवित 80 6

भयभीत 395 19

### सगबागाना

आश्चर्य होना 379 5

उद्दिन होना 377 7

भयभीत होना 395 13

भ्रमित होना 342 9

### सगभत्ता

साग भात 202 7

### सगर

तटवर्ती प्रवाहहीन जल 21 13

### सगरा [सगरी]

पूर्णांकिक 940 13

### सगरिया

तटवर्ती प्रवाहहीन जल 21.13

### सगरे

सर्व 940.8

### सगर्भ [सगर्भा]

औरस 716 15

सहोदर 723 27

### सगर्भा

गर्भवती 241.14

सगी बहन 723.19

### सगर्भ

अभिमानपूर्वक 858 14

### सगल

सर्व 940.8

### सगलगी

जनन संबंध 716 1

सहोदरता 723 17

स्वजन भावना 725 2

### सगा [सगी]

औरस 716 15

रिश्तेदार 715 6

रिश्तेदार 715.6

सहोदर 723.27

### सगाई

टीका 800 18

मिलन 389 1

वाग्दान 800 47

सबध 715 1

### सगापन

जनन सबध 716.1

सहोदरता 723 17

स्वजन भावना 725 2

### सगा भाई

सगा भाई 723 18 ⇨

### सगा संबंधी

रिश्तेदार 715 6

### सगी बहन

सगी बहन 723.19 ⇨

### सगुण

गुणवतायुक्त 957.10

तत्वीय 78 24

त्रिगुणात्मक 762 12

लक्षणयुक्त 317.22

सगुण ईश्वर 764.11

साकार 967.12

### सगुण ईश्वर

सगुण ईश्वर 764 11 ⇨

### सगुणता

त्रिगुणात्मकता 762 4

साकारता 967.1

### सगुण पूजा

मूर्ति पूजा 751 7

### सगुण ब्रह्म

सगुण ब्रह्म 764.29 ⇨

### सगुण भक्ति

मूर्ति पूजा 751.7

### सगुणी

सद्गुणी 313 15

### सगुणोपासना

मूर्ति पूजा 751 7

### सगुन

शकुन 262 1

### सगुनिया

शकुनज्ञ 262.17

### सगुनीती

शकुन विचार 262 4

### सगूह

गृहस्थ 235.3

### सगे संबंधी

स्वजन 725.1

### सगोत

सगोत्रीय 729 13

### सगोती

सगोत्रीय 729 13

### सगोत्र

सगोत्रीय 729 13

### सगोत्र जन

गोत्र जन 729 4

### सगोत्रता

सगोत्रता 729.2 ⇨

### सगोत्री

सगोत्रीय 729 13

### सगोत्रीय

सगोत्रीय 729.13 ⇨

### सगगङ

ठेला 1071 6

बैलगाड़ी 1071.42

### सघन

अगम्य 519.25

अवेध्य 519.26

गहन 1004.16

गहन (अंधकार) 288 16

जनाकीर्ण 616.29

तोस 769.23

त्रिआयामीय 964.24

दृक्काय 180.12

प्रगाढ़ 81.14

मेघाच्छन्न 55.14

सघन 81.15 ⇨

सघन 1004.15 ⇨

सघन बुना 576.30

### सघन अवस्था

सघन अवस्था 79.8 ⇨

### सघन करना

सघन करना 81.9 ⇨

### सघन छनाई

फिल्टरगण 1009.10

### सघनता

छिद्रहीनता 272.2

तोसपन 269.8

सघनता 81.2 ⇨

सघनता 1004.5 ⇨

सघन बुनावट 576 13

### सघनत्व

त्रिआयामीय 964.24

### सघन दूध

सघन दूध 193.6 ⇨

### सघनन

सघनन 81.3 ⇨

### सघन पदार्थ

सघन पदार्थ 79.9 ⇨

### सघन पल्लव वृक्ष

सघन पल्लव वृक्ष 111.25 ⇨

### सघन बुनना

सघन बुनना 576.26 ⇨

### सघन बुना

सघन बुना 576.30 ⇨

### सघन बुनावट

सघन बुनावट 576.13 ⇨

### सघन मेघ

काला मेघ 55.3

### सघन वन

गहन वन 12.7

### सघनीकरण

सघनन 81.3

### सघ

घटनामूलक 75 10

मूल तथ्य 820 16

वास्तविक 820 23

सत्य 820 1

सत्यत 820 25

सत्यता 820 2

सत्यतापूर्ण 820 20

### सघक्री

सारथी 1079 10

### सघमुच

सत्यतः 820 25

### सघर स्थान

संक्रमण स्थल 1091.5

### सघल

चलिष्यु 1090.42

जगम 1037 18

प्रवाहशील 1041.8

संचल 1037.19

स्फूर्त 491.13

### सघलकरण

सघल चित्रण 472.13

### सघलकार

सघलकार 472.14 ⇨

### सघल कोशिकाणु (प्र)

अमीबाणु 122.3

### सघल चित्र

कार्टून फ़िल्म 472.7

फ़िल्म 472.1

सघल चित्र 472.12 ⇨

### सघल चित्रकार

सघलकार 472 14

### सघल चित्रण

सघल चित्रण 472.13 ⇨

### सघलता

चलिष्युता 1090.2

जंगमता 1037.2

संचलता 1037.3

### सघल वायु

सघल वायु 85.4 ⇨

### सघलीकरण

सघल चित्रण 472.13

### सघाई

ईमानदारी 815.2

छलहीनता 815.3

तथ्यात्मकता 820.15

सत्यता 820.2

- सधितन पठन**  
परिशूलन 321.26
- सधित**  
घेतनायुक्त 263 12
- सधिव**  
आशुलेखक 412 15  
राजा मंत्री 889 20  
संगी 696.2  
सधिव 652.23 ⇐
- सधिव कार्यालय**  
सधियालय 654 12
- सधियालय**  
सधियालय 654 12 ⇐
- सधेत**  
घेतनायुक्त 263 12  
जागरूक 301.34  
जाग्रत 265 7  
जिज्ञासु 305.45  
तीक्ष्णधी 301.33  
बुद्धिमान 301 21  
बोध प्राप्त 301 29  
सावधान 497 4
- सधेतक**  
सधेतक 889 13 ⇐
- सधेतता**  
सावधानी 497 1
- सधेतन**  
घेतन 121.16  
जीवित 246 13  
लब्धघेता 263 13  
स्फूर्त 491 13
- सधेतनतः**  
घेतनत 263.14
- सधेतनता**  
संघलता 1037 3  
स्फूर्ति 491 2
- सधेतन होना**  
घेतना लाभ होना 263 9
- सधेतनीकरण**  
ऊर्जायन 101 6
- सधेतित**  
लब्धघेता 263.13
- सधेष्ट**  
जीवित 246 13  
प्रयत्नशील 489 9
- सधेतन्य**  
घेतनायुक्त 263 12
- सध्वरित्र**  
विवाह निष्ठा 805.1  
सध्वरित्र 810.5 ⇐
- सध्वरित्रता**  
सध्वरित्रता 810.2 ⇐
- सध्वरित्र होना**  
सध्वरित्र होना 810.3 ⇐
- सध्वरित्रा**  
सध्वरित्रा 810.8 ⇐
- सध्वर्या**  
विवाह निष्ठा 805.1
- सध्या [सध्वी]**  
अनभिमानी 859.6  
ईमानदार 815 7  
खरा [खरी] 96 1  
छलहीन 815 8  
परिपूर्ण 313 14  
वास्तविक 820 23  
विशुद्ध 219 7  
सत्यतापूर्ण 820 20  
सत्यनिष्ठ 820 21  
सत्यवादी 820 22  
सदाशय 817 10
- सध्या तराजू**  
ठीक तराजू 962 13
- सध्यापन**  
ईमानदारी 815.2  
धातु खरापन 98 4  
वास्तविकता 820 13  
सत्यता 820.2
- सध्या मित्र**  
निस्वार्थ मित्र 705.10
- सध्या हाल**  
सविस्तार विषरण 449 11
- सध्विवानंद**  
ईश्वर 764 1  
धित् स्वरूप ईश्वर 764 7  
ब्रह्म 764 24  
व्याहृति सूची 741 24
- सध्वी दोस्ती**  
निस्वार्थ मित्रता 705
- सध्वी मित्रता**  
निस्वार्थ मित्रता 705 9
- सध्वी सध्वी**  
सत्यत 820 25
- सध्वे**  
सत्यत 820 25
- सध्विष्ट**  
दुर्गुणी 314 8
- सध्वल**  
छलपूर्ण 827.22
- सध्व**  
देश 589.1  
शोभा 226 1  
सजघज 226.6  
सुंदरता 157 1
- सध्वग**  
घेतनायुक्त 263 12  
जागरूक 301.34  
जिज्ञासु 305 45  
तीक्ष्णधी 301.33  
प्रवीण 303 22  
सावधान 497.4
- सध्वगता**  
सावधानी 497.1
- सध्वका**  
सहजन 13.24
- सध्वबागाह**  
उपासना स्थल 745.15
- सध्वज**  
तडक भडक 226 4  
शृंगार 222 1  
सजघज 226.6 ⇐
- सध्वजन**  
पति 803 5  
प्रेमी 368 2  
स्वजन 725 1
- सध्वजना**  
कमबद्ध होना 991 18  
धारण करना 1019.13  
पहनना 589 22  
प्रेमी 368.2  
युद्ध सन्नद्ध होना 907 36  
शस्त्र धारण करना 930 4  
शृंगार करना 222.14  
शोभान्वित होना 226 7  
सध्वना 226.10 ⇐  
सन्नद्ध होना 491 8
- सध्वजना ध्वजना**  
शृंगार करना 222.14  
सध्वजना 226 10
- सध्वजनिया**  
प्रेमपात्रा 369 5  
प्रेमिका 368 3
- सध्वजनी**  
प्रेमपात्रा 369 5  
प्रेमिका 368.3  
स्त्री मित्र 705 3
- सध्वजज**  
तडक भडक 226 4  
शृंगार 222 1  
सजघज 226 6
- सध्वजल**  
आर्द्र 88.27  
जलयुक्त 98 23  
वर्षद 54 23
- सध्वजा**  
दड 870 1  
दरुदेश 870 2  
प्रतिशोध 873 2
- सध्वजा [सध्वजी]**  
शृंगारित 222 17  
सध्वजा घजा [सध्वजी घजी] 226.13
- सध्वजाई**  
अलकरण 227 1
- सध्वजाए मीत**  
मृत्यु दंड 871 1  
मृत्यु दंडादेश 871 2
- सध्वजाति**  
जातियुक्त 730.17  
शुद्ध वर्णीय 731.39  
सध्वजाति 730 4 ⇐
- सध्वजातीय**  
सध्वजातीय 730.21 ⇐
- सध्वजातीय**  
समकोटीय 936.11
- सध्वजात्व**  
संबंध 715.1
- सध्वकोटीय** 936 11
- सध्वजा देना**  
दंड देना 870 16
- सध्वजा ध्वजा [सध्वजी ध्वजी]**  
सध्वजा ध्वजा [सध्वजी ध्वजी] 226.13 ⇐
- सध्वजाना**  
कढ़ाई करना 577 27  
शृंगार कर्म करना 222 15  
शोभान्वित करना 226 8
- सध्वजायाप्रता**  
दंडित 870.21
- सध्वजावट**  
कढ़ाई काम 577 14  
काव्य अलकार 454 1  
शोभा 226 1  
सजघज 226 6
- सध्वजावटी**  
आनदपूर्ण 382 16  
दिखावटी 825.5
- सध्वजावटी अलमारी**  
शो केस 671 9
- सध्वजावटी कपड़े**  
उत्सवी वेश 589.6
- सध्वजावटी गौंठ**  
सध्वजावटी गौंठ 572.7 ⇐
- सध्वजावटी गिलास**  
गुलदान 12.35
- सध्वजावटी छत**  
सध्वजावटी छत 611.21 ⇐
- सध्वजावटीपन**  
दिखावा 825 1
- सध्वजावटी पैर धौधे**  
उपवन नगर वृक्ष 13 1
- सध्वजावटी रैपिंग**  
उपहार वेष्टन 592 6
- सध्वजावन**  
अलकरण 227 1  
शोभान्वयन 226 2
- सध्वजावल**  
धानेदार 866.9
- सध्वजाना**  
सहजन 13 24
- सध्वजित्व पुस्तक**  
हार्डकवर पुस्तक 448 7
- सध्वजीला**  
शृंगार प्रेमी (पुरुष) 222.5
- सध्वजीला [सध्वजीली]**  
बॉका [बॉकी] 860 23
- सध्वजीलापन**  
शृंगार प्रेम 222.4
- सध्वजीली**  
शृंगार प्रेमी (स्त्री) 222.6
- सध्वजीव**  
अभिव्यक्तिपूर्ण 428 18  
घेतन 121 16  
घेतनायुक्त 263.12  
जीवित 246 13  
तीक्ष्णधी 301.33

## सजीवकरण

बलिष्ठ 160.10  
 मुखर 428.11  
 सावधान 497.4  
 स्फूर्त 491.13  
**सजीवकरण**  
 अनुप्राणन 1046.6  
**सजीव करना**  
 अनुप्राणित करना 1046.19  
**सजीवकार**  
 सचलकार 472.14  
**सजीव जगत**  
 घेतन जगत 121.1  
**सजीवता**  
 बलिष्ठता 160.1  
 सचलता 1037.3  
 स्फूर्ति 491.2  
**सजीवन**  
 अनुप्राणन 1046.6  
 स्पर्दित 1039.18  
**सजीव होना**  
 जीवनयुक्त होना 246.10  
**सज्जन**  
 उच्च कुलीन 728.15  
 कुलीन पुरुष 728.6  
 शस्त्र धारण 930.1  
 सज्जन 817.7 ⇨  
**सज्जनतः**  
 सज्जनतापूर्वक 817.12  
**सज्जनता**  
 दयालुता 834.4  
 सज्जनता 817.1 ⇨  
 सम्भीकरण 733.1  
**सज्जनता (दे.)**  
 उपकारिता 832.2  
 छलहीनता 815.3  
**सज्जनतापूर्वक**  
 सज्जनतापूर्वक 817.12 ⇨  
**सज्जा**  
 आयुध 922.1  
 आहार्य अभिनय 464.36  
 वेश 589.1  
 शृंगार 222.1  
 सजघज 226.6  
**सज्जा [सज्जी]**  
 दक्षिण पाश्चीय 997.21  
**सज्जा कक्ष**  
 ग्रीनरूम 464.41  
 सज्जा कक्ष 614.14 ⇨  
**सज्जाद**  
 सिजदा करने वाला 751.18  
**सज्जादा**  
 नमाज़ दरी 593.52  
 संत आसन 595.12  
**सज्जाहीन**  
 अनलंकृत 227.5  
**सज्जित**  
 अलंकृत 227.4  
 उपकरणयुक्त 558.21

युद्ध सन्नद्ध 907.43  
 वैशित 589.25  
 शस्त्रधारी 930.6  
 सजा घजा [सजी घजी] 226.13  
 सन्नद्ध 491.16  
 सुवैशित 589.27  
**सज्जिततः**  
 सन्नद्धतः 491.20  
**सज्जितता**  
 सन्नद्धता 491.4  
**सज्जित होना**  
 पहनना 589.22  
 शस्त्र धारण करना 930.4  
 सजना 226.10  
 सन्नद्ध होना 491.8  
**सज्जी**  
 क्षार 87.10  
 त्रिंशकार सूची 87.12  
 सज्जी 87.17 ⇨  
**सज्जी खार**  
 सज्जी 87.17  
**सज्जे**  
 दाहिने 1098.30  
**सज्जान**  
 जीवित 246.13  
 ज्ञानपूर्ण 305.28  
**सज्सागुजार**  
 नमाज़गुजार 751.11  
**सज्जाला**  
 ज्वालामुक्त 106.24  
**सटक**  
 नैघा 213.12  
**सटकन**  
 चुपचाप पलायन 916.2  
 निगलन 181.24  
**सटकना**  
 पूरा खा जाना 181.34  
**सटक लेना**  
 चुपचाप पलायन करना 916.11  
**सटका [सटकी]**  
 चुपचाप पलायित 916.20  
 निगला [निगली] 181.66  
**सटकार**  
 झटकार 668.9  
 पशु चालन 1082.12  
 हँकाई 1079.11  
**सटकारना**  
 झकझोरना 1037.16  
 झटकारना 668.22  
 हाँकना 1079.19  
**सटकू**  
 पूर्ण भक्षक 181.54  
**सटक्का**  
 एक धाव 484.2  
**सटन**  
 संयुजन 1010.9  
 सटापन 31.2

**सटना**  
 धिपकना 1012.11  
 निकट आना 1093.9  
 मिलना 389.5  
 संलग्न होना 1010.13  
 सटना 31.6 ⇨  
**सटपटाना**  
 आतंकित होना 395.16  
 आश्चर्य होना 379.5  
**सटपटाया [सटपटाई]**  
 आश्चर्यित 379.8  
**सटपटाहट**  
 आश्चर्यितता 379.2  
**सटसट**  
 सटसटाहट 297.38  
**सटसटाहट**  
 सटसटाहट 297.38 ⇨  
**सटा**  
 अयाल 135.9  
 जटा 137.7  
 जूड़ा 223.14  
 वेणी 223.17  
 शिखा 137.10  
 शूकर रोम 135.4  
**सटा [सटी]**  
 संलग्न 1010.18  
 सटा [सटी] 31.8 ⇨  
**सटाना**  
 धिपकाना 1012.12  
 संलग्न करना 1010.14  
**सटापन**  
 सटापन 31.2 ⇨  
**सटाल**  
 अयाली 135.13  
 सिंह 127.50  
**सटासट**  
 शीघ्रतः 496.13  
**सटिया**  
 छड़ी 923.3  
**सटीक**  
 लक्ष्यानुगामी 931.22  
 संगत 438.6  
**सटोरिया**  
 सट्टेबाज़ 481.10  
**सट्टा**  
 अनुबंध 339.1  
 दौव 481.17  
 धूत सूची 481.2  
 सट्टेबाज़ी 481.5  
**सट्टा बट्टा**  
 कूट युक्ति 819.8  
 धनिष्ठता 704.13  
 संगति 696.1  
 सामंजस्य 702.1  
**सट्टा बाज़ार**  
 केसाहलपूर्वकः उपमान सूची 284.33  
 शेर्य बाज़ार 628.15

**सट्टी**  
 मंडी 663.8  
**सट्टेबाज़**  
 सट्टेबाज़ 481.10 ⇨  
**सट्टेबाज़ी**  
 सट्टेबाज़ी 481.5 ⇨  
**सठियाना**  
 वृद्ध होना 232.7  
**सठियायापन**  
 सठियायापन 353.13 ⇨  
**सठेरा**  
 गया बिरोजा 1012.10  
**सडक**  
 महल्ला 619.6  
 मार्ग 1063.1  
 सडक 1063.33 ⇨  
**सडक कर्ब**  
 सडक कर्ब 1064.2 ⇨  
**सडक कुटाई इंजन**  
 स्टीम रीलर 1070.10  
**सडक: खंबा**  
 लैप पोस्ट 285.28  
**सडक चलते**  
 राह चलते 1098.27  
**सडकछाप**  
 लाधारिस (जानवर) 127.97  
**सडकछाप बैद**  
 अनाड़ी विकित्सक 171.14  
**सडक पर दाहिनी ओर चलने का नियम**  
 राइटहैंड ड्राइविंग 1067.7  
**सडक पर बाईं ओर चलने का नियम**  
 लैफ्टहैंड ड्राइविंग 1067.6  
**सडक पार्व**  
 सडक पार्व 1064.1 ⇨  
**सडक विभाजक**  
 सडक विभाजक 1064.3 ⇨  
**सडक सडक**  
 अनुमार्गतः 1098.28  
**सडकका**  
 एक धाव 484.2  
**सडकन**  
 दुर्गंध 273.5  
**सडकन**  
 मलिनता 217.1  
**सडकन गंध**  
 सकार्येय 273.6  
**सडकना**  
 दुर्गंध फैलाना 273.9  
 नमीदार गरमी होना 53.13  
 पूयित होना 189.12  
**सडकसा**  
 सैकसा 580.7  
**सडकसी**  
 सैकसा 580.7  
**सडा [सडी]**  
 दुर्गंधपूर्ण 273.16  
 पूयित 189.15  
 सडा [सडी] 197.48 ⇨

**सकाक से**  
 शीघ्रतः 498.13  
**सका गला [सकी गली]**  
 पुपित 189.15  
**सकायैध**  
 पूय 167.16  
 सडायैध 273.6 ⇨  
**सकियल**  
 दुर्गधपूर्ण 273 16  
 निकृष्टतम 314 7  
 सका [सकी] 197.48  
**सकी गरमी**  
 नमीदार गरमी 53.9  
**सत**  
 अर्क 84.13  
 आसव 84 15  
 सत 176.26 ⇨  
**सत-**  
 सात 948.29  
**सत**  
 सातवौं [सातवीं] 948 93  
 सात. समुदाय 687 9  
 सार 84 16  
 सी 948.70  
**सतखंड**  
 सात खंडीय 938 57  
**सतखंडा [सतखंडी]**  
 सात खंडीय 938 57  
**सतखंडा भवन**  
 सतखंडा भवन 602 24 ⇨  
**सतगुना**  
 सतगुना 949.48 ⇨  
**सतगुना [सतगुनी]**  
 सतगुना 949 48  
**सतगुरु**  
 सद्गुरु 323.5  
**सतगुम**  
 सत्ययुग 40.12  
**सतजुगी**  
 सत्ययुगीन 40 17  
**सतत**  
 अशिराम 1049.10  
 तारतम्यपूर्ण 1049 12  
 शाश्वत 37.7  
 सटा [सटी] 31.8  
**सततग**  
 गतिशील 1042 11  
**सततगति**  
 प्रवाहशील 1041 8  
**सततता**  
 अशिरामता 1049.1  
 शाश्वतता 37 1  
 सटापन 31.2  
**सतत प्रयत्न**  
 अध्यवसाय 489.4  
**सतनु**  
 शरीरताः 139.16  
 शरीरी 139.13

**सतपुडा भेगी**  
 भारत उपमहाद्वीप. पर्वत सूची 17.1  
**सतफेरा**  
 सप्तपदी 800.21  
**सतबहनी घरखी**  
 सतबहनी घरखी 126.36 ⇨  
**सतभारी**  
 सप्तपदी 800.24  
**सतभहला**  
 सतखंडा भवन 602 24  
**सतमासा**  
 साध 798.7  
**सतमासा [सतमासी]**  
 अकाल असूत 244 15  
**सतयुग**  
 प्रागितिहासिक काल 78 4  
 सत्ययुग 40 12  
**सतरंगा [सतरंगी]**  
 बहुरंगा [बहुरंगी] 289 70  
 सतरंगा [सतरंगी] 289 74 ⇨  
**सतरंगापन**  
 बहुरंगीयता 289 22  
**सतरंज**  
 शतरंज 478.9  
**सतर**  
 कुद्द 373 28  
 पक्ति 691 4  
**सतरह**  
 सतरह 948.51 ⇨  
**सतर्क**  
 जागरूक 301.34  
 तर्कपूर्ण 325.21  
 सावधान 497 4  
**सतर्क खंडन**  
 खंडन 326 3  
**सतर्कता**  
 सावधानी 497 1  
**सतर्क प्रमाणित**  
 प्रमाणित 327 9  
**सतर्क शंका निवारण**  
 आपत्ति निवारण 326 6  
**सतर्क सम्बन्ध**  
 मंडन 326 2  
**सतलखा [सतलखी]**  
 बहुमूल्य 664 31  
**सतलज**  
 भारत उपमहाद्वीप नदी सूची 20.7  
 सतलज 20.20 ⇨  
**सतलकी**  
 सात लकी माला 228 43  
**सतबंती**  
 पतिव्रता 805.6  
**सतसई**  
 सतसई 446.28 ⇨  
 सात सीः समुदाय 687 19  
**सतह**  
 उत्तल 985.4  
 उत्तल सूची 985 21

तल 985 1  
 तह 975.15  
 फर्श 610 1  
 सपूर्ण घरतल 25 1  
**सतह पर**  
 उत्तल पर 985 19  
**सतही**  
 उत्तलीय 985 16  
 उथला [उथली] 984 8  
 दिखावटी 825 5  
 विचारहीन 330.22  
**सतही डाक**  
 रथल डाक 444 25  
**सतही तीर पर**  
 दिखावटी तीर पर 825 7  
**सतहीपन**  
 उत्तलीयता 985 3  
**सतही परिवर्तन**  
 ऊपरी परिवर्तन 532.6  
**सताना**  
 अत्याचार करना 835.6  
 उत्पीड़ित करना 391 20  
 कष्ट देना 392 16  
 दमन करना 911 8  
 दुर्य्यवहार करना 831 6  
 यत्रणा देना 391.21  
**सताप**  
 तप्त 104 22  
**सताया [सताई]**  
 अत्याचारित 835 12  
**सतारतम्य**  
 तारतम्यपूर्वक 1049 22  
**संत्रेया**  
 स्वस्तिक चक्र 407 20  
**सती**  
 पतिव्रता 805 6  
 शिव पत्नी सूची 767 20  
 संन्यासिनी 790 12  
 सती 776.16 ⇨  
 सती 787.22 ⇨  
 सती प्रथा 249 15  
 सती स्त्री 249 17  
 साधु स्त्री 790.17  
**सती (दे.)**  
 सती 787 22  
**सती (पूर्व जन्म)**  
 पार्वती 776.9  
**सतीः अबतार**  
 योग माया 771 82  
**सतीः धितारोहण**  
 सतीः धितारोहण 249.18 ⇨  
**सती घोरा**  
 सती घोरा 255.4 ⇨  
**सतीत्व**  
 पतिव्रत 805.4  
**सतीत्व विक्रय**  
 वैश्या वृत्ति 807.2

**सतीत्व हरण**  
 बलात्कार 237 11  
**सती धर्म**  
 पतिव्रत 805 4  
**सतीनम्ब**  
 शिव 767 ;  
**सतीपति**  
 भव 767.28  
 शिव 767 1  
**सती प्रथा**  
 सती प्रथा 249 15 ⇨  
**सती बहुला**  
 बहुला 774 56  
**सती माता**  
 सती स्त्री 249 17  
**सती रानी**  
 सती स्त्री 249 17  
**सती व्रत**  
 पतिव्रत 805 4  
**सतीव्रता**  
 पतिव्रता 805 6  
**सतीश**  
 शिव 767 1  
**सती साध्वी**  
 पतिव्रता 805 6  
**सती सुलोचना**  
 सुलोचना 784.29  
**सती स्त्री**  
 सती स्त्री 249.17 ⇨  
**सतुआ**  
 सत्तू 192 9  
**सत्तू**  
 स्तंभ 607 7  
**सत्तुष्ण**  
 तृषित 180 19  
**सतेज**  
 उष्ण 104 18  
 तेजोभडित 839 11  
 प्रभावशाली 511 17  
 स्फूर्त 491.13  
**सतोगुण**  
 सत्त्वगुण 762 8  
**सतोगुणी**  
 सत्त्वगुणी 762 16  
**सतौसर**  
 सात लकी माला 228 43  
**सत्त-**  
 उत्तम 313 13  
**सत्त**  
 व्याहृति सूची 741.24  
**सत्कर्ता**  
 सत्कर्ता 184.7 ⇨  
**सत्कर्म**  
 पाप प्रायश्चित्त 813 4  
 सत्कर्म 814.2 ⇨  
**सत्कर्म करना**  
 पुण्य करना 814.3

## सत्कर्म

सत्कर्म  
सत्कर्मा 814 6  
सत्कर्मी  
सत्कर्मी 814 6 ⇨  
सत्कला  
ललित कला 397 5  
सत्कवि  
अध्या कवि 448 15  
सत्कार  
अभिनंदन समारोह 854 11  
पूजा 751 1  
सत्कार 184.1 ⇨  
सहभोज 183 4  
सत्कार (दे.)  
अतिथि परायणता 183 12  
सत्कार करना  
सत्कार करना 184.4 ⇨  
सत्कार कर्ता  
सत्कर्ता 184 7  
सत्कारण  
अभिनदन 854 8  
सत्कार न करना  
सत्कार न करना 185.4 ⇨  
सत्कारपूर्वक  
सत्कारपूर्वक 184.11 ⇨  
सत्कार सम्मान  
अभिनदन समारोह 854 11  
सत्कार 184 1  
सत्कारहीनतः  
सत्कारहीनतः 185.10 ⇨  
सत्कारहीनता  
असत्कार 185 1  
सत्कारी [सत्कारिणी]  
स्वागत कर्ता 1059 27  
सत्कार्य  
सत्कर्म 814 2  
सम्मान्य 854 20  
सत्कीर्ति  
ख्याति 847 1  
विष्णु 768 1  
सत्कृत  
सत्कृत 184 6 ⇨  
सत्क्रिया  
दया 834 1  
मृतक संस्कार 253.1  
सत्कार 798 1  
सत्कर्म 814 2  
सत्कार 184 1  
सत्  
मूल तथ्य 820 16  
सत्य 820 1  
सत्तम  
उत्तम 313 13  
प्रधान 852 10  
सत्तर  
सत्तर 948.67 ⇨  
सत्तरह  
सत्तरह 948.51

सत्तरी  
ओल्ड टैस्टामेंट 739 11  
सत्तांतरण  
सत्तांतरण 902.1 ⇨  
सत्ता  
अस्तित्व 246 1  
प्रतिष्ठा 849 2  
प्रधानता 852 3  
वास्तविकता 820 13  
व्यक्तित्व 836 1  
शासन 890.1  
सत्ता 899.1 ⇨  
सत्ता पक्ष 885 5  
सत्ताह पाठ 749 13  
सात 948.29  
सात समुदाय 687 9  
सत्ता अपहरण  
सत्ता अपहरण 902 5 ⇨  
सत्ता अपहरण करना  
सत्ता अपहरण करना 902.21 ⇨  
सत्ता अभिग्रहण करना  
सत्तारोहण करना 899 22  
सत्ता आसन  
सत्ता आसन 595 8 ⇨  
सत्ता केंद्रीयकरण  
सत्ता केंद्रीयकरण 899.6 ⇨  
सत्ता क्षेत्र  
अधिकार क्षेत्र 897 2  
सत्ताध्युत  
सत्ताध्युत 902 25 ⇨  
सत्ताध्युत करना  
सत्ताध्युत करना 902 19 ⇨  
सत्ता ध्युति  
सत्ता ध्युति 902.3 ⇨  
सत्ता त्याग  
सत्ता त्याग 902.2 ⇨  
सत्ता त्यागना  
सत्ता त्यागना 902 18 ⇨  
सत्ता त्यागी  
सत्ता त्यागी 902.24 ⇨  
सत्ताधारी  
आधिपत्यधारी 899 9  
सत्ताधारी 899.3 ⇨  
सत्ताधारी पक्ष  
सत्ता पक्ष 885 5  
सत्ताधिकार  
सत्ता 899 1  
सत्ताधिकारी  
सत्ताधारी 899.3  
सत्ताधीश  
सत्ताधारी 899.3  
सत्ता नाश  
नाश 531.1  
सत्तानिष्ठ  
सत्तानिष्ठ 826.11 ⇨  
सत्ता निष्ठा  
सत्ता निष्ठा 826.4 ⇨

सत्ता पक्ष  
सत्ता पक्ष 885 5 ⇨  
सत्ता पक्षीय  
सत्ता पक्षीय 885 28 ⇨  
सत्ता परिवर्तन  
सत्तांतरण 902 1  
सत्तापहरण  
सत्ता अपहरण 902 5  
सत्ता प्रदाता  
सत्ता हस्तांतरण कर्ता 902 27  
सत्ता बौटना  
सत्ता सौपना 902 20  
सत्ता बोध  
अहं तत्त्व 351 3  
सत्ता भक्त  
सत्तानिष्ठ 826.11  
सत्ता भक्ति  
सत्ता निष्ठा 826.4  
सत्तार  
अत्लाह 764 12  
सत्तारुद्ध  
सत्तारुद्ध 899 25 ⇨  
सत्तारुद्ध पक्ष  
सत्ता पक्ष 885 5  
सत्तारुद्ध पक्ष विषयक  
सत्ता पक्षीय 885 28  
सत्तारुद्ध होना  
सत्तारोहण करना 899 22  
सत्तारोहण  
सत्तारोहण 899.14 ⇨  
सत्तारोहण करना  
सत्तारोहण करना 899.22 ⇨  
सत्ता विकेंद्रीयकरण  
सत्ता विकेंद्रीयकरण 899 7 ⇨  
सत्ता विरोध  
सत्ता विरोध 902 7 ⇨  
सत्ता विरोधी  
सत्ता विरोधी 902.28 ⇨  
सत्ताशील  
अस्तित्वशाली 246.11  
सत्तासीन होना  
सत्तारोहण करना 899.22  
सत्ता सौपना  
सत्ता सौपना 902.20 ⇨  
सत्ता हथियाना  
सत्ता अपहरण करना 902.21  
सत्ता हस्तांतरण  
सत्ता हस्तांतरण 902.4 ⇨  
सत्ता हस्तांतरण करना  
सत्ता सौपना 902.20  
सत्ता हस्तांतरण कर्ता  
सत्ता हस्तांतरण कर्ता 902.27 ⇨  
सत्ता हस्तांतरित  
सत्ता हस्तांतरित 902.26 ⇨  
सत्ताहारी मिश्रण  
नीर क्षीर मिश्रण 1008.3  
सत्ताहीन  
नष्ट 531.7

सत्ती घोरा  
सत्ती घोरा 255 4  
सत्तु  
सत्तु 192.9 ⇨  
सत्तरी  
यज्ञपति 753 4  
सत्त्व  
अस्तित्व 246 1  
अहं तत्त्व 351.3  
तत्त्व 78 6  
निष्कर्ष. प्रकार सूची 84 2  
प्राण तत्त्व 245 1  
बलिष्ठता 160 1  
वृक्ष निर्यास 84.8  
शक्ति 487 1  
सत 176 26  
सत्त्वगुण 762 8  
सत्त्व 820 1  
सार 84 16  
सत्त्व (विष्णु)  
त्रिदेव सूची 765 10  
सत्त्वगुण  
त्रिगुण सूची 762.5  
सत्त्वगुण 762 8 ⇨  
सत्त्वगुणी  
सत्त्वगुणी 762 16 ⇨  
सत्त्व निष्कर्षण  
निष्काशन 195 40  
सत्त्वपूर्ण  
सारपूर्ण 84 19  
सत्त्व रज तम  
प्रकृति तीन गुण 762 3  
सत्त्व लोक  
जीव जगत 121.3  
सत्त्ववान  
अस्तित्वशाली 246.11  
सत्त्वगुणी 762.16  
स्फूर्त 491 13  
सत्त्वशाली  
साहसी 394.13  
सत्त्वस्थ  
अस्तित्वशाली 246.11  
सत्त्वहीन  
सारहीन 84.20  
सत्त्वात्मा  
धर्मशील 735.13  
सत्त्वस्थ  
बलनीय मार्ग 1063.2  
सुधर्म 735.4  
सत्त्वान्न  
सुपात्र 303.15  
सत्त्वान्न  
सप्तम 718.5  
सत्त्वयोग  
सदुपयोग 524.3  
सत्त्वकार  
दायित्व पालन 895.2  
वचन पालन 339.16

सत्य

ईश्वर 764 1  
घटनामूलक 75 10  
तथ्य 820 14  
धर्म लक्षण सूची 737 29  
पंचशील सूची 737 12  
ब्रह्म 764 24  
विश्वसनीय 340 13  
विश्वेदेव सूची 777.10  
सत्य 820.1 ⇌  
सत्यतापूर्ण 820.20  
सत्ययुग 40 12  
सत्य अधटितता  
अचरितार्थता 439 8  
सत्य अपलाप  
सत्य अपलाप 821 6 ⇌  
सत्य अपलापक  
अपलापक 821 18  
सत्य अपलाप करना  
सत्य अपलाप करना 821 15 ⇌  
सत्यअहिंसा वाद  
गांधीवाद 884 21  
सत्य कथन  
सत्य कथन 820 12 ⇌  
सत्य कथा  
सत्य कथा 450 16 ⇌  
सत्य करना  
सत्य सिद्ध करना 820 18  
सत्यकाम  
ईमानदार 815 7  
ऋषि मुनि सूची 789 17  
सत्यनिष्ठ 820 21  
सत्यकीर्ति  
विष्णु 768 1  
शिव 767 1  
सत्यगंधा  
द्रौपदी 771.64  
सत्य घटन  
घरितार्थता 438 2  
सत्य घटितता  
घरितार्थता 438.2  
सत्य घटित न होना  
घरितार्थ न होना: 439.4  
सत्यघ्न  
वचन भंग कर्ता 338.48  
सत्यजित  
दानव सूची 783.13  
यक्ष सूची 779.3  
सत्यता:  
सत्यतः 820.25 ⇌  
सत्यता  
वास्तविकता 820.13  
सत्यता 820.2 ⇌  
सत्यतापूर्ण  
सत्यतापूर्ण 820.20 ⇌  
सत्यतापूर्ण होना  
सत्य होना 820.17

सत्यदर्शी

न्यायाधीश 8~4 15  
विचारक 330 6  
सत्यदेव  
सत्य नारायण 773 47  
सत्य धर्म  
शाश्वत सत्य 820 6  
सत्यधर्मा  
विष्णु 768 1  
सत्य धारण  
सत्य निष्ठा 820.9  
सत्य नारायण  
सत्य नारायण 773 47 ⇌  
सत्यनिष्ठ  
ईमानदार 815 7  
सत्यनिष्ठ 820.21 ⇌  
सत्य निष्ठा  
ईमानदारी 815 2  
सत्य निष्ठा 820.9 ⇌  
सत्यपर  
ईमानदार 815 7  
सत्यवादी 820 22  
सत्यपराक्रम  
विष्णु 768 1  
सत्यपरायण  
विष्णु 768 1  
शिव 767 1  
सत्यनिष्ठ 820 21  
सत्यपीर (बंगाल)  
सत्य नारायण 773 47  
सत्यप्रतिज्ञा  
दृढ़प्रतिज्ञा 339 45  
प्रतिज्ञा पालक 339 47  
वचन पालक 339 43  
सत्य प्रमाणन  
सत्यापन 327 5  
सत्यप्रिय  
सत्यनिष्ठ 820 21  
सत्य प्रेम  
सत्य निष्ठा 820 9  
सत्य प्रेमी  
सत्यनिष्ठ 820 21  
सत्यभामा  
कृष्णः आठ पत्नी सूची 771 12  
सत्यभारत  
वेद व्यास 789.21  
सत्य भाषण  
सत्य कथन 820.12  
सत्यभाषिता  
सत्यवादिता 820.11  
सत्यभाषी  
सत्यवादी 820.22  
सत्य भ्रुति  
घरितार्थता 438.2  
सत्यभेदी  
वचन भंग कर्ता 338.48

सत्यमेधा

विष्णु 768 1  
सत्ययुग  
सत्ययुग 40 12 ⇌  
सत्ययुगी  
सत्ययुगीन 40 17  
सत्ययुगीन  
सत्ययुगीन 40.17 ⇌  
सत्यरत  
सत्य नारायण 773 47  
सत्य लोक  
मोक्ष लोक 258.10  
सात लोक सूची 258 6  
सत्यवक्ता  
सत्यवादी 820.22  
सत्य वचन  
प्रतिज्ञा 339 17  
प्रामाणिक कथन 327 4  
सत्य वचन 820.10 ⇌  
सत्यवती  
ऋषि स्त्री सूची 789 25  
सत्यवती 771 95 ⇌  
सत्य वाक्य  
सत्य वचन 820 10  
सत्य वाचक  
सत्यवादी 820 22  
सत्य वाद  
प्रतिज्ञा 339 17  
वचन 339 15  
सत्यवादिता  
सत्यवादिता 820.11 ⇌  
सत्यवादी  
युधिष्ठिर 771 80  
विश्वामित्र 789 20  
सत्यवादी 820.22 ⇌  
स्पष्ट वक्ता 430 19  
सत्यवान  
सत्यनिष्ठ 820 21  
सत्य वृत्त  
सत्य निष्ठा 805 1  
सत्यव्रत  
वैवस्वत मनु 788.5  
सत्य व्रत  
सच्चरित्रता 810 2  
सत्यव्रत  
सत्यनिष्ठ 820 21  
सत्य व्रत  
सत्य निष्ठा 820.9  
सत्यशाप्य  
वचन पालक 339 43  
सत्यशील  
दृढ़प्रतिज्ञा 339.45  
वचन पालक 339.43  
सच्चरित्र 810.5  
सत्यनिष्ठ 820.21  
सत्यवादी 820.22  
सत्य संकल्प  
दृढ़ प्रतिज्ञा 339.18

सत्यबंध

जनमेजय 771 55  
प्रतिज्ञा पालक 339 47  
वचन पालक 339 43  
सत्यसंधा  
द्रौपदी 771 64  
सत्य संरक्षण  
वचन पालन 339 16  
सत्यसिद्ध  
सिद्ध 877 22  
सत्य सिद्ध करना  
सत्य सिद्ध करना 820.18 ⇌  
सिद्ध करना 877 18  
सत्य सिद्धि  
वाद सिद्धि 877.1  
सत्यस्थ  
दृढ़प्रतिज्ञा 339.45  
वचन पालक 339 43  
सत्य होना  
सत्य होना 820.17 ⇌  
सत्या  
कृष्ण. आठ पत्नी सूची 771.12  
सत्यभामा 771.94  
सत्यवती 771.95  
सीता 770 66  
सत्याग्रह  
सत्याग्रह 904.11 ⇌  
सत्याग्रह कर्ता  
सत्याग्रही 904 12  
सत्याग्रही  
सत्याग्रही 904.12 ⇌  
सत्यात्मक  
सत्यतापूर्ण 820 20  
सत्यात्मा  
ईमानदार 815 7  
सच्चरित्र 810 5  
सत्यनिष्ठ 820.21  
सत्याधारित  
सत्यतापूर्ण 820.20  
सत्यानाश  
नाश 531 1  
सत्यानाशी  
नाशक 531 8  
सत्यानासी  
दुर्भाग्यशाली 260.34  
नाशक 531.8  
सत्यानुरागी  
सत्यनिष्ठ 820.21  
सत्यापन  
सत्य कथन 820.12  
सत्यापन 327.5 ⇌  
सत्यापन करना  
सत्यापन करना 327.8 ⇌  
सत्यापन पत्र  
सत्यापन पत्र 327.8 ⇌  
सत्यापित  
सत्यापित 327.12 ⇌

## सत्यापित वसीयत

### सत्यापित वसीयत

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 623 15

### सत्याभास

सत्याभास 821 8 ⇨

सत्याभासी 821 19

### सत्याभासी

सत्याभासी 821 19 ⇨

### सत्युगी

सुदूर भूत कालीन 36 20

### सत्येतर

असत्य 821 1

### सत्योद्घाटन

रहस्योद्घाटन 822 6

### सत्र

अधिवेशन 694 14

अध्ययन सत्र 322 8

आहार वितरण 183.30

आहार वितरण केंद्र 183 31

भवन 602 7

यज्ञ 753 1

सभा 694 1

### सत्रप

प्रातः प्रशासक 882 31

### सत्रह

सतरह 948.51

### सत्रागार

यज्ञ शाला 753 18

### सत्रिगुण

त्रिगुणात्मक 762 12

### सत्री

ब्रह्मा 766 1

यज्ञपति 753 4

राजदूत 443.10

### सत्रुटि

दुर्गुणी 314 8

### सत्संकल्प

सदाशय 817 10

### सत्संग

धर्म उपदेश 742 5

सत्संग 749 21 ⇨

सुसंगति 696 7

### सत्संग (दे.)

धर्म सभा 694 3

### सत्संग करना

सत्संग करना 749.43 ⇨

### सत्संग कर्ता

सत्संग कर्ता 749 22 ⇨

### सत्संगति

सुसंगति 696 7

### सत्संग मंडली

सत्संग मंडली 749.23 ⇨

### सत्संगी

सत्संग कर्ता 749 22

### सत्समागम

सत्संग 749.21

सुसंगति 696 7

### सत्थरी

घटाई 593.49

### सधिया

स्वस्तिक चक्र 407 20

### सद

अत्यधिक 944 7

आसन ग्रहण 1028 1

कुव्यसन 812 7

सी 948 70

### सदक्रा

टोना टोटका 759 1

टोना टोटका सूची 759.3

दान 641 1

प्रसाद 750 13

भिक्षा वस्तु 642 6

वारफेर 710 12

### सदक्रे का कौआ

टोना टोटका सूची 759 3

### सदक्रे का गुड्डा

टोना टोटका सूची 759.3

### सदक्रे की गुड़िया

टोना टोटका सूची 759 3

### सदक्रे जाना

वारफेर करना 710 19

### सदक्रे लेना

वारफेर करना 710 19

### सदन

आसन ग्रहण 1028 1

गृह 601 1

भवन 602 7

संसद भवन 695 7

सभागार 695 1

### सदन अध्यक्ष

सदन अध्यक्ष 889 9 ⇨

### सदन नेता

सदन नेता 889.10 ⇨

### सदमा

आघात 169 2

मनोघात 354 3

शोक 101 10

### सदय

दयापूर्ण 834 11

### सदया

दयापूर्ण 834.11

दयापूर्वक 834 18

### सदर

अध्यक्ष 652 14

प्रधान 852 10

प्रधान व्यक्ति 852 4

सभापति 694 18

### सदर दरवाजा

फाटक 608 9

### सदर बाज़ार

मुख्य बाज़ार 663.4

### सदर मजलिस

दरबारे आम 695.9

### सदर मुक्राम

अड्डा 696 10

जनपदालय 620.16

प्रधान कार्यालय 654.5

### सदर सङ्क

मुख्य सङ्क 1063 34

### सदरी

फ़तुही 585.58

### सदरे रियासत

राज्यपाल 891.3

### सदस

दलबल सहित 691 8

ससैन्य 932 35

### सदसबल

दलबल सहित 691 8

ससैन्य 932 35

### सदसद्-

उत्तम अनुत्तम 313 10

कल्याण अकल्याण 710.1

### सदसद् ज्ञान

विवेक 301 7

### सदस्य

परिचद सदस्य 889.8

सदस्य 692.30 ⇨

### सदस्यता

सदस्यता 692 29 ⇨

### सदस्य सूची

सदस्य सूची 993.5 ⇨

### सदस्यीकरण (दे.)

आप्रवेश 1002 2

### सदा

आवाहन 1055 1

ऋतु कालातीत 51 18

तारतम्यपूर्वक 1049 22

फ़रियाद 350 9

वाद्या 299 1

शाश्वत 37.7

हमेशा 1049.17

### सदाकृत

अनलकृतता 227.2

सत्यता 820 2

### सदागति

गतिशील 1042 11

प्रवाहशील 1041 8

ब्रह्मा 766 1

वायु 85.1

शिव 767 1

### सदागम

अकपट आय 643 7

### सदागमन

शुभागमन 1093.2

### सदाघरण

सच्चरित्रता 810.2

### सदाधार

चतुर्वर्ग 761.22

त्रिवर्ग 761.20

धर्मशीलता 735.2

विवाह निष्ठा 805.1

सच्चरित्रता 810.2

### सदाधार परंपरा

मर्यादा 808.5

### सदाधारिणी

सच्चरित्रा 810 6

### सदाधारिता

पापहीनता 813.1

सच्चरित्रता 810 2

### सदाधारी

धर्मशील 735.13

सच्चरित्र 810.5

### सदाधारी [सदाधारिणी]

पुण्य कर्ता 814.5

### सदाधारी होना

सच्चरित्र होना 810.3

### सदाजयी

जयशील 912 16

### सदातीया

प्रवाहशील 1041 8

### सदात्मा

सच्चरित्र 810 5

सदाशय 817 10

सुस्वभावी 837 10

### सदादान

ऐरावत 780 5

गणेश 773 22

### सदानंद

आनदशील 382:19

प्रसन्न कर्ता 381.8

प्रसन्नचित्त 837 16

विष्णु 768 1

शिव 767 1

### सदानर्त

खंजन 126 24

### सदानीरा

पौराणिक नदी सूची 20.23

### सदापर्ण

धिर नवीन 64 12

सदाबहार वनस्पति 111.5

### सदापुष्प

ऋतु कालातीत 51 18

धिरयुवा 231.13

सदाबहार वनस्पति 111.5

### सदाप्रसून

धिरयुवा 231.13

### सदाफल

ऋतु कालातीत 51.18

नारियल 13.11

### सदाबहार

अनश्वर 37.9

उपवन पुष्प सूची 14.2

ऋतु कालातीत 51 18

धिर नवीन 64 12

धिरयुवा 231.13

सदाबहार वनस्पति 111.5

### सदाबहार जबानी

धिर जीवन 231.10

### सदाबहार वनस्पति

सदाबहार वनस्पति 111.5 ⇨

### सदानंद

गणेश 773.22



सदायोगी	सगत 438 6	सद्गृहस्थिन	निकट भूत कालीन 36 19
विष्णु 768.1	समकक्ष 851 5	गृहस्थिन 235 4	सद्यस्तन
सदाश	समरूप 967 20	सद्ता	आधुनिकतम 64 8
सपत्नीक 803 20	समाकार 978 4	उत्तमता 313 1	नवीनतम 64 11
सदाशत	समान 30.7	सदा	निकट भूत कालीन 36 19
अध्यक्षता 652 13	सादृश्य उक्ति सूची 309 26	पतंग डोर सादा 569 12	सद्योजात
सदाशुह	सद्शत	सदी	शिव चार मूर्ति सूची 746 10
लता 111 17	प्रतिरूपत 967 23	पतंग डोर सादा 569 12	सद्योजात मुख
सदावर्त	सद्शता	सद्धर्म	शिव मुख सूची 767 6
आहार वितरण 183 30	समकक्षता 851 1	जैन धर्म 737 1	सद्रूप
आहार वितरण केंद्र 183 31	समरूपता 967 10	बौद्ध धर्म 737 6	सुडील 155.4
सदावर्त लगाना	सद्श होना	सुधर्म 735 4	सद्रूपता
आहार वितरण करना 183 37	सादृश्य होना 309 11	सद्धी	सुडीलता 155 2
सदावर्ती	सद्श्य	सुस्वभाव 837 1	सद्रे आज्ञम
दानी 641 27	सद्श्य 309 20 ⇨	सदिनवाह	मुख्य न्यायमूर्ति 874 18
सदाशय	सद्श्यता	सद्यवहार 830 1	सद्धिधार
उदार 344 5	सादृश्य 309 3	सदपरामर्श	कल्याण कामना 710 4
कल्याण कामी 710 23	सदेह	सुपरामर्श 332 3	सद्धिधारी
विशालहृदय 817 11	शरीरत 139 16	सदप्रयोग	सदाशय 817 10
सदाशय 817 10 ⇨	शरीरी 139 13	सदुपभोग 524 3	सद्वेच
सदाशयता	साकार 967 12	सदबुद्धि	वैमनस्यपूर्ण 706 21
सदाशयता 817 4 ⇨	सदैव	सुस्वभाव 837 1	सद्व्यवहार
सदाशय होना	अतिरामत 1049 16	सदभाग्य	सद्व्यवहार 830 1 ⇨
सदाशय होना 817 6 ⇨	पत्रात स्तुति आदि सूची 444 42	सौभाग्य 260 17	सद्व्यवहार करना
सदाशिव	हमेशा 1049 17	सदभाव	सद्व्यवहार करना 830 4 ⇨
उन्नतिशील 534 11	सदैवता	कल्याण कामना 710 4	सद्व्यवहार कर्ता
दयालु 834 12	शाश्वतता 37 1	दयालुता 834 4	सद्व्यवहारी 830 6
प्रसन्नचित्त 837 16	सदोष	सदाशयता 917 4	सद्व्यवहारी
शिव 767 1	खोटा [खोट्टी] 98 13	सौमनस्य 705 18	सद्व्यवहारी 306 ⇨
सदा सुहागिन	दुर्गुणी 314 8	सदभावना	सधना
वेश्या 807 5	सदोष पाठ	मिश्रता 705 1	अनुकूल होना 885 23
सुहागन 803 13	अपपाठ 412 34	सौमनस्य 705 18	अभ्यस्त होना 303 12
सदा स्मरण	सद असद-	सदभावपूर्ण	कार्यान्वित होना 505 13
अविस्मरण 356 6	उत्तम अनुत्तम 313 10	सौमनस्यपूर्ण 705 30	घेतना लाभ होना 263.9
सदिच्छा	विपरीतता उपमान सूची 310 13	सदभावी	निश्चल होना 1038.5
कल्याण कामना 710 4	सद्गति	कल्याण कामी 710 23	लक्ष्य वेध होना 931 16
सदिच्छुक	मृत्यु 249 1	सौमनस्यपूर्ण 705 30	सयम पालना 808 11
कल्याण कामी 710 23	गोक्ष 257 1	सद्धम	सावधान होना 497 3
सदियों तक	शिव 767 1	आसन 595 2	सधन्यवाद
दीर्घ काल तक 37 11	सद्गीत	गृह 601 1	धन्यवादपूर्वक 833 12
सदिशा	शिव 767 1	भवन 602 7	सधर्म
आयामयुक्त 964 20	सद्गुण	वेधशाला 1 7	सहधर्म 735 9
सदी	सज्जनता 817 1	सद्धमा	स्वधर्म 735 7
दीर्घ काल 37.5	सद्गुण 313 6 ⇨	आवासी 618 25	सधर्मा
शताब्दी 42 25	सद्गुणयुक्तता	सद्य	समरूप 967 20
सदुक्ति	उत्तमता 313 1	निकट भविष्य मे 36 35	सहधर्मी 735 19
सुयजन 431 1	सद्गुणहीन	निकट भूत काल मे 36 31	सधर्मी
सूक्ति 434 2	दुर्गुणी 314 8	वर्तमान मे 36.33	सहधर्मी 735 19
सदुपदेश	सद्गुणी	शीघ्र करणीय 496 10	सधवता
सुपरामर्श 332 3	सज्जन 817 7	शीघ्रत 496 13	सुहाग 803 11
सदुपभोग	सद्गुणी 313 15 ⇨	सद्यजातक	सधवा
सदुपभोग 524.3 ⇨	सद्गुणीय	नवजात शिशु 230.4	सुहागन 803 13
सदुपयोग	सत्त्वगुणी 762 16	सधता	सधा [सधी]
सदुपभोग 524.3	सद्गुरु	नवीनता 64 3	अभ्यस्त 303 19
सदुबता	ईश्वर 764 1	शीघ्र करणीयता 496 2	निश्चल 1038.8
धैर्यपूर्वक 394.19	सद्गुरु 323.5 ⇨	सद्यस्क	सधाई
सद्गुरु	सद्गृहस्थ	आधुनिकतम 64.8	निश्चलन 1038.3
प्रतिरूपी 967.19	गृहस्थ आश्रमी 235 11	नवीनतम 64 11	

## सधाना

### सधाना

अभ्यास करवाना 303 13

### सधापन

प्रवीणता 303 8

### सधाव

प्रवीणता 303 8

### सधावर

साध 798 7

### सधुर

सधुर 803 17 ⇨

### सधुरता

सधुरता 803 16 ⇨

### सधुर्यता

दापत्य संग 803 1

### सधैर्य

धैर्यपूर्वक 394 19

### सधीर

साध 798 7

### सध्यानतः

सावधानतः 497 6

### सध्यान निरीक्षण

सूक्ष्म निरीक्षण 284 18

### सध्यय

प्रयोजनपूर्ण 508.6

### सनदन

ब्रह्मा मानस पुत्र सूची 766 12

### सन

ईसवी सतत 42 4

सवत्सर 42 1

सन 568 2 ⇨

### सन (अ) (दे. ईसा)

ईसाई त्रिमूर्ति सूची 765 3

### सनअत

उद्योग 557 3

व्यवसाय 650 9

हस्त शिल्प 557 9

### सनअतगार

व्यवसायी 650 24

शिल्पकार 557 10

### सनअती

उद्योग विषयक 557 15

### सनई

सन 568.2

### सनकः

आवेश 371 1

ब्रह्मा मानस पुत्र सूची 766 12

मव 211 1

सनक 353.10 ⇨

### सनकना

पागल होना 354.21

### सन कपड़ा

सन कपड़ा 579.12 ⇨

### सनक संप्रदाय

चार वैष्णव संप्रदाय सूची 737.51

### सनकीपन

### सनडे (अ)

रविवार 46 3

### सन डोरी

सन डोरी 570.4 ⇨

### सनत्कुमार

बाल ब्रह्मचारी 234 6

ब्रह्मा मानस पुत्र सूची 766 12

### सनद

अधिभोग पत्र 622 4

अनुपति पत्र 337 6

ऋण पत्र 633 14

डिप्लोमा 322 31

दस्तावेज 412 19

दान पत्र 641 4

प्रमाण पत्र 322.32

मुद्राक 414 17

### सनदी

सत्यापित 327 12

### सनना

मलिन होना 217 4

लिपना 292 10

### सननी

सानी 556.2

### सनम

देव मूर्ति 746 1

प्रेमपात्र 369 4

मूर्ति 406 1

सनमकदा देव मंदिर 745 30

### सनमाइका

सनमाइका 581 7 ⇨

सनमाइका 990 16 ⇨

### सनमाइका (अ)

सनमाइका 990 16

सनमाइका 581 7

### सन मे

सवत्सर मे 42 28

### सन: मोटा रस्सा

सन मोटा रस्सा 570.9 ⇨

### सनशेड

सनशेड 611 26 ⇨

### सनशेड (अ)

सनशेड 611 26

### सनसन

धुनधुनी 1039 12

सनसनाना 281 39

सनसनाना लेज चीकना 484 14

### सनसनाहट

धुनधुनी 1039 12

सनसनाहट 297 39 ⇨

### सनसनी

आतंक 395 5

उद्दिग्नता 377.4

भय कंपन 395.2

शोषांध 382.6

### सनसनीस्रेज

आतकपूर्ण 395 22

### सना [सनी]

आलेपित 292 13

मैंडा [मैंडी] 195.61

### सनाई

आलेपन 292 3

मैंकाई 195 14

### सनातन

अनश्वर 37 9

ईश्वर 764 1

पारंपरिक 795.13

प्राचीन 63 6

ब्रह्म 764 24

ब्रह्मा 766 1

ब्रह्मा मानस पुत्र सूची 766 12

विष्णु 768 1

शाश्वत 37 7

शिव 767.1

### सनातनतः

पारंपरिकतः 795 17

### सनातनता

अनश्वरता 37 3

शाश्वतता 37.1

### सनातन धर्म

सनातन धर्म 737.34 ⇨

### सनातन धर्मी

सनातन धर्मी 737 35 ⇨

### सनातन पुरुष

मनु 788 1

वरा प्रवर्तक 727 7

### सनातनवादी

परंपरावादी 343 23

### सनातनी

दुर्गा 776 7

पारंपरिक 795 13

पार्वती 776 9

लक्ष्मी 775 1

सनातन धर्मी 737 35

सरस्वती 775 8

### सनाथता

सनाथता 719 2 ⇨

### सनाद

स्वर सामंजस्यपूर्ण 480.45

### सनाभ

रिशतेदार 715 6

सगा भाई 723 18

### सनाभि

अरा 1077 7

सगा भाई 723 18

### सनायक

नेतायुक्त 346 5

### सनिमित्त

कारणयुक्त 507 5

### सनियम

अपवादहीनतः 879 26

व्यवस्थिततः 893.17

### सनियमता

व्यवस्थितता 893.6

### सनियम शासन

सनियम शासन 893.2 ⇨

### सनियम शासन होना

सनियम शासन होना 893.10 ⇨

### सनिरघय

अवश्यमेव 68.21

सकल्पपूर्वक 500 16

### सनिरघय नहीं

सनिरघय नहीं 338.53 ⇨

### सनिरघय ना

सनिरघय नहीं 338 53

### सनिरघय हौं

सनिरघय हौं 337.30 ⇨

### सनीघर

शनिवार 46 9

### सनीघरी

शनि दशा 261.22

### सनीङ

रिशतेदार 715.6

सहनिवासी 616.14

स्वजन 725 1

### सनी मिट्टी

मिट्टी गारा 100 9

### सनील

रिशतेदार 715.6

स्वजन 725 1

### सनेहा

प्रेम उपहार 640 4

संदेश 443.1

### सनेहिया

स्नेही 368 24

### सनेही

वास्तव्यपूर्ण 721.12

स्नेही 368.24

### सनोवर

चीक 13 7

### सन्-

अच्छा: उपसर्ग सूची 313.19

### सन्न

अवसन्न 264 22

आसन्न 67.10

दुःखी 391.24

निरुत्तर 335 10

सिक्का (सिक्की) 980.28

स्त्रोभन कृत 758 42

### सन्नकंठ

रुद्धकंठ 429.28

### सन्नति

धित अवस्था 355 1

नमन 1080.4

### सन्नद्ध

प्रवृत्त 502.10

शस्त्रधारी 830.6

शस्त्रीकृत 907.45

संलग्न 1010.18

सटा [सटी] 31.8

सन्नद्ध 491.16 ⇐  
 -सन्नद्ध  
 सहितः प्रत्यय सूची 1006 5  
 सन्नद्धतः  
 सन्नद्धता 491.20 ⇐  
 सन्नद्धता  
 युद्ध सन्नद्धता 907 5  
 सन्नद्धता 491 4 ⇐  
 सन्नद्धन  
 शस्त्र धारण 930 1  
 सन्नद्ध होना  
 युद्ध सन्नद्ध होना 907 36  
 सन्नद्ध होना 491 8 ⇐  
 सन्नय  
 नौका पृष्ठ 1073 31  
 सन्नहन  
 ग्रथि सुदृढन 573 2  
 शस्त्र धारण 930 1  
 सन्नटा  
 अनुत्तर 335 1  
 ध्वनिहीनता 295 1  
 निर्जनता 617 6  
 मीन भाव 429 3  
 सनसनाहट 297 39  
 सहम 395 3  
 सन्नाटा छाना  
 ध्वनिहीन होना 295 2  
 सन्नाटेदार  
 ध्वनिहीन 295 4  
 सन्नाद  
 स्वर सामंजस्य 460 15  
 सन्नारी  
 कुलीन स्त्री 728 7  
 सन्नाह  
 कवच 921 2  
 कवचधारी 921 15  
 शस्त्रीकरण 907 7  
 सन्निकट  
 आसन्न 67 10  
 निकटस्थ 31.7  
 सन्निकटता  
 निकटता 31.1  
 सन्निकर्ष  
 निकटता 31 1  
 सन्निकष्य  
 संराशिकरण 667.4  
 सन्निय  
 उपस्थित 1021.9  
 सन्नियता  
 आनयन कर्ता 1053 11  
 सन्नियान  
 इन्द्रियार्थ 268.9  
 ध्यानन 331.2  
 निकटता 31.1  
 सन्नियपात  
 पलन 1031.1  
 लंब रेखा 968.34  
 सन्पात बिंदु 968.5

सन्नियद्ध  
 नत्थीकृत 417 15  
 सटा [सटी] 31 8  
 सन्निय  
 सदृश्य 309 20  
 सादृश्य. उक्ति सूची 309 26  
 सन्नियमित  
 शुभ शकुन 262 2  
 सन्निययंता  
 नियंत्रक 899.12  
 सन्निययुक्त  
 प्रवृत्त 502 10  
 सन्निययोग  
 नियोग 241 3  
 सन्निययोजक  
 आयोजक 655 19  
 सन्निययोजन  
 प्रवर्तन 693 3  
 सन्नियवास  
 निवासिता 616 1  
 सन्नियवासी  
 निवासी 616 13  
 सन्नियविष्ट  
 निकट आसीन 1028 11  
 सन्नियवेश  
 आप्रवेश 1002 2  
 क्रीड़ा स्थल 482 1  
 निकटता 31 1  
 पड़ोस 31 3  
 मंडली 691 5  
 मित्र मंडली 705 4  
 सार्वजनिक उपवन 12 16  
 सन्नियवेशक  
 बस्ती निर्माता 599 6  
 सन्नियवेशित  
 आवासित 618 23  
 प्रसिद्धित 1094.25  
 सन्नियवेशी  
 आवासी 618.25  
 सन्नियवेशी [सन्नियवेशिनी]  
 पड़ोसी 31 4  
 सन्नियहित  
 आसन्न 67 10  
 सन्नियोवन  
 प्रणोदन 1051 1  
 सन्निय्यस्त  
 आधारित 1019 7  
 सन्निय्यास प्रवेश  
 संन्यास प्रवेश 233.8  
 सन्निय्यासिनी  
 संन्यासिनी 790.12  
 सन्निय्यासी  
 संन्यासी 790.11  
 सन्निय्यति  
 सुस्वभाव 837.1  
 सन्निय्यान  
 सम्मान 854.3;

सन्न्यार्ग  
 चलनीय मार्ग 1063.2  
 सन्न्यत्रिता 810 2  
 सुघर्म 735 4  
 सन्न्युख  
 समक्ष 1021.8  
 सन्न्यय  
 न्यायपूर्ण 874 34  
 न्यायपूर्वक 874 39  
 सन्न्यख  
 पखयुक्त 151 16  
 सन्न्यक्ष  
 आयामयुक्त 964 20  
 पखयुक्त 151 16  
 मित्रयुक्त 705 28  
 स्वजातीय /30 20  
 सन्न्यक्षपात  
 पक्षपातपूर्ण 885 34  
 सन्न्यक्षी  
 सजातीय 730 21  
 सन्न्यटा  
 टाट 580 16  
 सन्न्यट्टा  
 सपोट 181 25  
 सन्न्यट्टी  
 चौखट पार्श्व काष्ठ 609 4  
 सन्न्यति  
 सपतिक 803 19  
 सपतिक  
 सपतिक 803.19 ⇐  
 सपतिकत्व  
 सुहाग 803.11  
 सपत्न  
 प्रतिद्वंद्वी 707 8  
 शत्रु 706 2  
 शत्रुपूर्ण 706 16  
 सपत्नी  
 सीत 803 9  
 सपत्नीक  
 सधुर 803.17  
 सपत्नीक 803.20 ⇐  
 सपत्नीत्व  
 सीतिया डाह 803.10  
 सपत्नीय  
 सीतिया 803.18  
 सपत्न्य  
 पखयुक्त 151.16  
 सपन  
 स्वप्न 267 1  
 सपना  
 कल्पना 308.1  
 चिर इच्छा 359.2  
 मनोवाछा 359 4  
 योजना 520.1  
 स्वप्न 267 1  
 सपना होना  
 दुर्लभ होना, 942.11

सपनीला [सपनीली]  
 स्वप्निल 267 9  
 सपन में न मिलना  
 अनुपलब्ध होना 942 10  
 सपरदा  
 संगतिया 461.4  
 सपरदाई  
 संगतिया 461 4  
 सपरना  
 साध्य होना 518 13  
 सपराना  
 कार्य समापन करना 522.3  
 सपरिकर  
 दलबल सहित 691.8  
 सपरिक्रम  
 ससैन्य 932.35  
 सपरिच्छद  
 दलबल सहित 691.8  
 सपरिजन  
 दलबल सहित 691 8  
 परिवारयुक्त 726 14  
 सपरिणाम  
 परिणामयुक्त 510 10  
 सपरिवार  
 परिवारयुक्त 726 14  
 सपत्नीक 803.20  
 सपरिश्रम  
 परिश्रमपूर्वक 493 14  
 सपत्नत्व  
 पत्नत्वयुक्त 115.13  
 सपत्नपाहट  
 सटसटाहट 297.38  
 सपाट  
 द्विआयामीय 964.23  
 समतल 986.9  
 स्तनहीन 146 16  
 सपाटता  
 दो आयाम 964.6  
 द्विआयामता 964.8  
 समतलता 986 1  
 सपाट बैठक  
 बैठक सूची 485 12  
 सपाट मैदान  
 वनस्पतिहीन मैदान 11 2  
 समतल भूमि 966.3  
 सपाटा  
 झपट्टा 914 10  
 दीर्घाकी 484.1  
 शीघ्रता 496.1  
 सपाटे से  
 शीघ्रतः 496.13  
 सपाव  
 सबाया 949.32  
 सपाप  
 पापपूर्ण 812.11  
 सर्पिड  
 शरीरी 139.13  
 सर्पिड रिस्तोवार 729.8

## सर्पिडता

### सर्पिडता

सर्पिडता 729.7 ⇨

### सर्पिड रिश्तेदार

सर्पिड रिश्तेदार 729.8 ⇨

### सपुण्य

पुण्यपूर्ण 814.4

### सपुत्र

पुत्रवान 239.11

### सपुलक

प्रसन्नतापूर्वक 381.11

### सपुष्प

पुष्पयुक्त 115.17

### सपूत

सपूत 718.5 ⇨

### सपोट

सपोट 181.25 ⇨

### सपोट जाना

पूरा खा जाना 181.34

### सपोटना

सपोटना 181.48 ⇨

### सपोटने वाला

सपोटने वाला 181.61 ⇨

### सपोटा

बड़ा ग्रास 181.28

सपोट 181.25

### सपोटू

अत्याहारी 182.15

सपोटने वाला 181.61

### सप्त

सात 948.29

सातवाँ [सातवीं] 948.93

सात समुदाय 687.9

### सप्त ऋषि

सप्तर्षि 789.12

सप्तर्षि मंडल 3.10

### सप्तक

सप्तक 459.3 ⇨

सात 948.29

सातवाँ [सातवीं] 948.93

सात समुदाय 687.9

### सप्तक क्रमिक पाठ

सरगम अभ्यास 460.12

### सप्तक सूची

सप्तक सूची 459.4 ⇨

### सप्तक स्वर सूची

सप्तक स्वर सूची 459.6 ⇨

### सप्तकोण

सप्तभुज 969.10

### सप्तखंड

सात खंडीय 938.57

### सप्तखंडीय

सात खंडीय 938.57

### सप्तगुण

सतगुना 949.48

### सप्तग्राम

सप्तक 459.3

### सप्तजिह्व

अग्नि 106.1

विष्णु 768.1

### सप्तताल

सप्तताल 458.45 ⇨

### सप्तति

सत्तर 948.67

### सप्तदश

सत्तरह 948.51

### सप्तद्वीप

पौराणिक महाद्वीप 26.6

### सप्तद्वीपा

पृथ्वी 9.1

### सप्तपदी

विवाह 799.1

विवाह प्रतिज्ञा 799.40

सप्तपदी 800.24 ⇨

### सप्तपाटीय

सात खंडीय 938.57

### सप्त पाताल

सात पाताल 258.7

### सप्तभद्र

शिरिष 13.21

### सप्तभागीय

सात खंडीय 938.57

### सप्तभुज

सप्तभुज 969.10 ⇨

### सप्तभुजा

सप्तभुज 969.10

### सप्तभूम

सतखंडा भवन 602.24

### सप्तम

सातवाँ [सातवीं] 948.93

### सप्तम कारक

अधिकरण कारक 425.27

### सप्त मयूर

सप्तर्षि मंडल 3.10

### सप्त मातृका

सप्त मातृका 774.69 ⇨

### सप्त मातृका सूची

सप्त मातृका सूची 774.70 ⇨

### सप्तमी

सप्तमी 44.13 ⇨

### सप्तर्षि

सप्तर्षि 789.12 ⇨

### सप्तर्षिज

बृहस्पति ग्रह 7.6

### सप्तर्षि मंडल

सप्तर्षि मंडल 3.10 ⇨

### सप्तर्षि मंडलः ऋषि सूची

सप्तर्षि मंडल ऋषि सूची 3.11 ⇨

### सप्तर्षि महाभारत

सप्तर्षि महाभारत 789.13 ⇨

### सप्तला

रीठा 220.25

शिकार्हाई 220.26

### सप्तलोक

सात लोक 258.5

### सप्तलोक्री

पृथ्वी 9.1

### सप्त बरुथ

रथ 1071.46

### सप्तबाद

स्याद्वाद 737.5

### सप्त बाहन

विष्णु 768.1

### सप्तशत

सात सौ समुदाय 687.19

### सप्तशती

सतसई 446.28

सत्तर 948.67

सात सौ समुदाय 687.19

### सप्त सागर

सप्त सागर 24.21 ⇨

### सप्त सागर सूची

सप्त सागर सूची 24.22 ⇨

### सप्त सिंधु

सप्त सागर 24.21

### सप्तस्वर

सप्तक 459.3

### सप्तार्णु

अग्नि 106.1

### सप्तात्मा

ब्रह्म 764.24

### सप्तार्धि

नजर लगाने वाला 711.13

शनि ग्रह 7.8

### सप्तार्णव

पृथ्वी 9.1

सप्त सागर 24.21

### सप्तार्ध

सूर्य 8.1

### सप्तार्य

सप्तभुज 969.10

### सप्ताह

सप्ताह 46.1 ⇨

सप्ताह पाठ 749.13

सात उपमान सूची 948.30

### सप्ताह पाठ

सप्ताह पाठ 749.13 ⇨

### सप्ताहः बार

सप्ताह बार 46.2 ⇨

### सप्ततियोगिता

प्रतियोगितापूर्वक 707.16

### सप्ततीक्षा

प्रतीक्षापूर्ण 1057.8

### सप्तभ

आलोकित 285.45

दीप्त 287.34

### सप्तमाण कथन

प्रतिपादन 326.1

### सप्तमाण ज्ञान

प्रमाण 327.1

### सप्तयत्न

सप्तयत्नपूर्वक 489.11

### सप्तयास

प्रयत्नपूर्वक 489.11

### सप्तयोजन

प्रयोजनत 508.11

### सप्तबाह

गतिशील 1042.11

### सप्तबाहता

गतिशीलता 1042.2

### सप्त्राण

जीवित 246.13

बलिष्ठ 160.10

श्वसयुक्त 245.23

### सप्त्राणन

ऊर्जायन 101.6

### सप्तम

पत्रांत स्तुति आदि सूची 444.42

मित्रतापूर्ण 705.26

### सप्तलाई (अँ)

मौंग पूर्ति 656.5

रसद 656.10

### सप्तलाई करना

मौंग पूर्ति करना 656.14

### सप्तलाई डिपो (अँ)

वितरण केंद्र 656.9

### सप्तलायर (अँ)

मौंग पूर्ति कर्ता 656.6

### सक्र

नमाज़ी पंक्ति 751.13

पंक्ति 691.4

सेना पंक्ति 933.6

सेना व्यूह 907.8

### सक्रआरा

व्यूह रथेता 907.47

### सफतालू

आड़ू 190.7

### सक्रदर

अली 791.5

योद्धा 934.15

रणवीर 396.9

### सक्रबंदी

व्यूह रचना 907.9

### सक्रर

गमन 1091.1

यात्रा 1087.1

### सक्रर

शफरी 125.12

### सक्रर

हिजरी मास सूची 43.5

### सक्रर करना

मरना 249.18

### सक्रर की मुलाहता

मार्ग परिचितता 704.12

### सक्रर ज़र्ब

यात्रा व्यय 1087.14

### सक्ररचंद

अमरुद 190.6

सेब 190.36

### सक्ररजल

बिल्व 190.27

संस्करणनामा  
यात्रा वर्णन 1087.29  
संस्करण भत्ता  
यात्रा भत्ता 643.39  
संस्करणभेना  
अप्रगामी सेना 933.2  
संस्कारी  
यात्रा भत्ता 643.39  
यात्रा व्यय 1087.14  
यात्री 1087.2  
संस्कारी  
शफरी 125.12  
संस्कारी  
सेब 190.36  
संस्कारी आम  
अमरूद 190.6  
संस्कारी पेटी  
संस्कारी पेटी 1087.36 ⇨  
संस्कारी बिस्तर  
स्तीपिंग बैग 1087.35  
संस्कारी संबूक  
सूटकेस 676.19  
संस्फल  
उत्तीर्ण 322.39  
पुरस्कृत 857.23  
पूर्णप्रतिज्ञा 339.46  
पूर्णच्छ 361.13  
फलप्रद 118.18  
फलयुक्त 116.11  
फलित 118.16  
लामान्वित 646.15  
संस्फल 512.6 ⇨  
संस्फुद 626.11  
संस्फलक  
आयामयुक्त 964.20  
बालधारी 921.14  
संस्फलकाम  
पूर्णच्छ 361.13  
संस्फलताकाक्षी 512.7  
संस्फलता  
इच्छा पूर्ति 361.1  
उत्तीर्णता 322.24  
क्रीडा लक्ष्य प्राप्ति 475.24  
जय 912.1  
फलप्रदता 118.3  
संस्फलता 512.1 ⇨  
संस्फलताकाक्षी  
संस्फलताकाक्षी 512.7 ⇨  
संस्फलतापूर्वक  
संस्फलतापूर्वक 512.8 ⇨  
संस्फलताप्रद  
संस्फलताप्रद 512.5 ⇨  
संस्फलता मिलना  
संस्फल होना 512.3  
संस्फलताधर्म  
संस्फलताकाक्षी 512.7  
संस्फलप्रतिज्ञा  
पूर्णप्रतिज्ञा 339.46

संस्फलमनोरथ  
पूर्णच्छ 361.13  
संस्फल 512.6  
संस्फल लक्ष्य  
संस्फल लक्ष्य 931.4 ⇨  
संस्फल विद्रोह  
क्रांति 903.4  
संस्फलव्रत  
पूर्तसकल्प 500.12  
संस्फल होना  
युक्ति लगना 517.8  
संस्फल होना 512.3 ⇨  
संस्फलित  
फलित 118.16  
संस्फला  
ईमानदार 815.7  
कागज़ शीट 415.10  
रुधिर पीठ 447.20  
रिक्त 1005.7  
स्पष्ट 822.20  
स्वच्छ 218.33  
संस्फलाई  
अपराध मुक्ति 869.4  
ईमानदारी 815.2  
कलापूर्णता 402.1  
गर्भाशय शुद्धि 241.8  
झाड़ पीछ 218.5  
प्रक्षालन 220.1  
प्रतिवाद 875.11  
प्रदीपता 303.8  
भुगतान 634.3  
शौचालय कर्म 216.23  
सदेह निवारण 346.7  
सज्जनता 817.1  
सुजीविता 170.2  
स्पष्टता 822.1  
स्पष्टीकरण 876.11  
स्वच्छता 218.1  
स्वच्छीकरण 218.2  
हाथ की सफ़ाई 473.28  
संस्फलाई करना  
स्वच्छ करना 218.24  
संस्फलाई कर्मधारी  
शौचालय कर्मी 216.24  
संस्फलाई देना  
स्पष्टीकरण देना 876.24  
संस्फलाई पक्ष  
प्रतिवादी 875.12  
संस्फलाई से  
सुरक्षितता: 908.29  
संस्फलयुक्त  
केस मुडित 224.13  
रिक्त 1005.7  
रोमहीन 135.12  
विलुप्त 824.24  
संस्फाल्या  
नाश 531.1

संस्कारी  
आखेट यात्रा 252.21  
संस्कारी शर्ट (ऑ)  
बुरशर्ट 585.31  
संस्कारी सूट  
संस्कारी सूट 583.19 ⇨  
संस्कारीना  
जलयान 1072.1  
नीका 1072.2  
संस्कारीर  
दूत 443.9  
राजदूत 443.10  
संस्कारीक  
घूरन 176.16  
घुरा 938.17  
संस्कारीद  
उज्ज्वल 218.37  
रुधिरहीन 131.18  
श्वेत 289.65  
संस्कारीद (कपड़ा)  
अरंजित 291.15  
संस्कारीद कट्ट  
पेठा 189.27  
संस्कारीद कपड़ा  
श्वेत वस्त्र 578.23  
संस्कारीद कपड़े  
श्वेतांबर देश 589.9  
संस्कारीद कमल  
श्वेत कमल 14.7  
संस्कारीद चिट्ठा  
अति श्वेत 289.67  
संस्कारीद घीटी  
दीमक 122.29  
संस्कारीद छाता  
राजछत्र 408.13  
श्वेत ब्रंडा  
युद्ध विराम ध्वजा 408.6  
संस्कारीद दाग  
संस्कारीद दाग 165.13 ⇨  
संस्कारीदपोश  
कार्यालय कर्मी 652.34  
कुलीन समाज 728.4  
बुद्धिजीवी 301.22  
संस्कारीद कर्मी चादर  
संस्कारीद फरॉनी चादर 593.30 ⇨  
संस्कारीद मांस  
मत्स्य मांस 206.24  
संस्कारीद मांस 206.13 ⇨  
संस्कारीद मिर्च  
संस्कारीद मिर्च 278.8 ⇨  
संस्कारीद रसगुल्ला  
बंगाली रसगुल्ला 203.35  
संस्कारीद बाइन  
संस्कारीद बाइन 209.17 ⇨  
संस्कारीद सरसों  
जादुई सरसों 474.32  
संस्कारीद हाथी  
ऐरावत 780.5

संस्कारीद हाथी 127.40 ⇨  
संस्कारीद होना  
विवर्ण होना 291.10  
संस्कारीद  
आम सूची 190.10  
प्रातःकालीन अर्धप्रकाश 287.11  
संस्कारीदी  
अंडा संस्कारीदी 206.6  
कली घुना 290.23  
घुना पुताई 291.5  
पावडर 225.11  
श्वेतिमा 289.19  
संस्कारीदी रघ्याह  
कल्याण अकल्याण 710.1  
संस्कारीन  
फेनिल 88.26  
संस्कारीधु  
मित्रयुक्त 705.28  
रिशतेदार 715.6  
सहवशी 727.30  
संस्कारीब  
अत्यधिक 944.7  
अनवशिष्ट 954.18  
अभंजित 539.13  
असक्षिप्त 978.7  
पूर्ण रचित 527.16  
पूर्णांशिक 940.13  
प्रत्येक 940.9  
शत प्रति शत 947.32  
समाप्त (कार्य) 522.4  
समूहता 690.14  
सर्व 940.8  
संस्कारीदेटमिक पार्टिकल्स (ऑ)  
अवपरमाणु कण 78.11  
संस्कारीब ओर  
घनुदिरात 29.36  
संस्कारीबकटिनेट (ऑ)  
उप महाद्वीप 26.8  
दक्षिण एशिया 27.2  
भारत उपमहाद्वीप 27.5  
संस्कारीबक  
अध्याय 447.2  
दंड 870.1  
शिक्षा 321.1  
शिक्षा पाठ 322.5  
सीख 332.6  
संस्कारीबकमिटी (ऑ)  
उपसमिति 692.21  
संस्कारीबक सिखाना  
दंड देना 870.16  
संस्कारीब का  
साप्टिक 690.13  
संस्कारीब का सब  
पूर्णांशिक 940.13  
संस्कारीब कुछ  
जना पुंजी 628.8  
पूर्णांशिक 940.13

## सब के विपरीत

**सब के विपरीत**  
 प्रतिप्रवाह 1096 17  
**सब के सब**  
 समूहत 690 14  
**सब के साथ**  
 अनुप्रवाह 1096 16  
**सब कोई**  
 प्रत्येक 940 9  
**सब को पता होना**  
 सर्व सज्जात होना 441 14  
**सबकोशास (ओं)**  
 अवचेतन मन 352 3  
**सब तरफ**  
 चतुर्दिशतः 29 36  
**सबद**  
 उपदेश 430 9  
 सूक्ति 434 2  
**सबदरा**  
 मस्तूल अड़डडा 1073 14  
**सबब**  
 कारण 507 3  
 कारणत 507 7  
**सबमजिस**  
 सबमजिस 1080 14 ⇨  
**सबमजिस (ओं)**  
 सबमजिस 1080 14  
**सबमेरीन (ओं)**  
 पनडुब्बी 1072 39  
**सबरा [सबरी]**  
 पूर्णांशिक 940 13  
**सबरी**  
 लीवर 1062 3  
 शबरी 770 63  
**सबर्ब (ओं)**  
 उपनगर 620 11  
**सबल**  
 दलबल सहित 691 8  
 प्रबल 487 24  
 बलिष्ठ 160 10  
 लीवर 1062 3  
 शक्तिशाली 487 20  
 ससैन्य 932.35  
**सबल कथन**  
 सबल कथन 430.2 ⇨  
**सबलतः**  
 बलिष्ठत 160 16  
**सबलता**  
 बलिष्ठता 160 1  
**सबला**  
 वीर स्त्री 396 3  
**सबलि**  
 पशु बलि समय 754 9  
**सबवे (ओं)**  
 अघो पारपथ 1064.18  
 पुल. नीचे मार्ग 1065 14  
 भूमिगत पारपथ 1064 14  
 सुरंग 1065 1

**सब से अच्छा**  
 उत्तम 313 13  
**सब से अधिक**  
 अधिकतम 944 6  
**सब से छोटा भाई**  
 सब से छोटा भाई 723 13 ⇨  
**सब से ज्यादा**  
 अधिकतम 944.6  
**सब से पहले**  
 पहले पहल 72.7  
 प्रथमत 505 38  
**सब से बुरा**  
 निकृष्टतम 314 7  
**सबसेकशन (ओं)**  
 उपविभाग 937 5  
**सबस्टैंडर्ड (ओं)**  
 अदमानक 957.9  
**सबहैडिंग (ओं)**  
 उपशीर्षक 447 19  
**सबा**  
 पूर्व पवन 85 22  
 बयार 85 14  
**सबिंग (ओं)**  
 उप सपादन 445 12  
**सबीज**  
 बीजयुक्त 112 19  
**सबील**  
 प्याऊ 207 11  
**सबूत**  
 दस्तावेज 412 19  
 प्रमाण 327 1  
 प्रमाण 876 21  
**सबूत के तौर पर**  
 प्रमाणत 327 16  
**सबूत**  
 सहिष्णु 872.16  
**सबूही**  
 मद्य कुंभ 209 37  
**सबेर**  
 प्रभात काल 47 4  
**सबेरा**  
 प्रभात काल 47.4  
**सबेरे**  
 प्रभात मे 47 21  
 समय पूर्वत 62.24  
**सबोध**  
 ज्ञानपूर्ण 305.28  
 विचारिततः 330 29  
**सबज**  
 वनस्पतियुक्त 111 31  
 हरा 289.69  
**सबज घोड़ा**  
 भाँग 210 1  
**सबज परी**  
 परी सूची 782 5  
**सबजा**  
 घास 11 6  
 नई कोमल दाढ़ी 136.4

नीलकंठ 126.46  
 पत्रा 96 13  
 शस्य 111.8  
 हरीतिमा 289.21  
**सबजागार**  
 घास मैदान 11.5  
 वनस्पतियुक्तता 111.2  
**सबजी**  
 भाजी 201 16  
 शस्य 111.8  
 साग सबजी 189 1  
**सबजी फ़रोश**  
 सबजी विक्रेता 663 16  
**सबजी बाजार**  
 सबजी मंडी 663 15  
**सबजी मंडी**  
 केलाहलपूर्णा उपमान सूची 294 33  
**सबजी मंडी**  
 सबजी मंडी 663 15 ⇨  
**सबजीघत**  
 वनस्पतियुक्तता 111 2  
**सबजी विक्रेता**  
 सबजी विक्रेता 663 16 ⇨  
**सबजीक्ट (ओं)**  
 पाठ्य विषय 322 4  
**सबबल**  
 खती 559.12  
 लीवर 1062.3  
**सब्र**  
 दीर्य 894 6  
 प्रहार सहन शक्ति 920 2  
 सतोष 360 5  
 सयम 808 8  
 सहन 872.5  
 सहिष्णुता 872.4  
 सांत्वना 393 4  
**सभंग**  
 खडीय 938 50  
**सभस्मा**  
 भभूत घारी 106.25  
**सभा**  
 अधिवेशन 694.14  
 गोष्ठी 694 4  
 द्यूतगृह 481 13  
 मंडली 691.5  
 राजनीतिक दल 885 15  
 विधान परिषद 889.5  
 संसद 889.1  
 संस्था 692 1  
 सभा 694.1 ⇨  
 सभागार 695.1  
**सभा (दे.)**  
 व्यपस्थित समूह 690.5  
**सभा अयोग्य**  
 सभा अयोग्य 694.29 ⇨  
**सभा आरंभ**  
 सभा आरंभ 694.22 ⇨

**सभा काररवाई**  
 सभा काररवाई 694.21 ⇨  
**सभा कार्य सूची**  
 सभा कार्य सूची 993.4 ⇨  
**सभागार**  
 दर्शक दीर्घा 471.4  
 सभागार 695.1 ⇨  
**सभागार (दे.)**  
 प्रेक्षागार 471.1  
**सभागृह**  
 सभागार 695.1  
**सभाघार**  
 शिष्टता 733 7  
**सभाध्यक्ष**  
 सभापति 694 18  
**सभा नायक**  
 द्यूत गृह स्वामी 481.14  
**सभापति**  
 सभापति 694.18 ⇨  
**सभापतित्व**  
 अध्यक्षता 652.13  
**सभा पर्व**  
 महाभारत पर्व सूची 771 23  
**सभा भवन**  
 सभागार 695 1  
**सभा योग्य**  
 संसद योग्य 889 24  
 सभा योग्य 694.28 ⇨  
**सभारंभ**  
 सभा आरंभ 694 22  
**सभार**  
 भारयुक्त 963.11  
**सभाय**  
 सपत्नीक 803.20  
**सभा विषयक**  
 सभा विषयक 694.27 ⇨  
**सभा विसर्जन**  
 सभा समापन 694.23  
**सभा संचालक**  
 सभा संचालक 694.20 ⇨  
**सभासद**  
 परिषद सदस्य 889 8  
 सदस्य 692.30  
**सभासदता**  
 सदस्यता 692 29  
**सभा समापन**  
 सभा समापन 694.23 ⇨  
**सभा स्थल**  
 सभा स्थल 695.11 ⇨  
**सभिक**  
 द्यूत गृह स्वामी 481 14  
**सभी**  
 सर्व 940.8  
**सभी और**  
 चतुर्दिशतः 29.36  
**सभी तरफ**  
 चतुर्दिशतः 29.36

सभेद	जिज्ञ 786.3	खड़ा [खड़ी] 1029.11	सम घन
असदृश 310.6	तालः सम 458 28	समकोणीयता	सम घन 977.18 ⇨
सभेय	संगत 438 6	प्रतिक्षिजता 1020 4	समचक्रांतरता
शिष्ट 733.18	समकक्ष 851.5	समक्ष	संकेद्रता 971.11
सभा योग्य 694.28	समतल 986 9	अभिमुख 1023 9	समघनुरघ्न
सभोधित	समरूप 987 20	उपस्थित 1021 9	वर्ग आकृति 969.6
शिष्ट 733.18	समसंख्यक 94 29	तुलना मे 309 23	समघ्न
सभा योग्य 694.28	समाकार 978 4	समक्ष 1021.8 ⇨	समव्यवहारी 830.7
सभ्य	समान 309.22	समक्षलः	समघरण
अक्ष द्रुतकर 481.9	सादृश्यः उक्ति सूची 309.26	समक्षतः 1021.11 ⇨	समव्यवहार 830.2
पद्य 874.21	सुविधाजनक 518 15	समक्षता	समव्यवहार 830.2
शिष्ट 733 18	समकक्ष	अभिमुखता 1023 1	समव्यवहार 830.2
संसद योग्य 889.24	समकक्ष 851.5 ⇨	निकटता 31 1	समव्यवहार 830.2
सभा योग्य 694.28	समान (प्रतियोगी) 707.10	समक्षता 1021 1 ⇨	समव्यवहार 830.2
सभा विषयक 694.27	समकक्ष आगतुक	समक्षता (क्षे.)	समव्यवहार 830.7
सभा सघालक 694.20	समकक्ष आगतुक 1095.18 ⇨	दृश्यता 282 9	स्थिरचित्त 355.6
सभ्य 733.13 ⇨	समकक्ष आगत	समक्ष दर्शन	समवेता
सभ्य करना	समकक्ष आगत 1095.17 ⇨	प्रत्यक्ष अवलोकन 284.3	अविद्यल 500 15
सभ्य करना 733.11 ⇨	समकक्ष आगमन	समक्ष न रहना	धैर्यशील 394.15
सभ्यता	समकक्ष आगमन 1095.3 ⇨	समक्ष न रहना 1022.4 ⇨	निरुद्धिग्न 378.9
शिष्टता 733 7	समकक्ष करना	समक्ष न होना	समवेता
सभ्यीकरण 733.1	समकक्ष करना 851 4 ⇨	समक्ष न होना 1022.3 ⇨	अविद्यल 500 15
सभ्यता विषयक	समकक्षता	समक्ष होना	धैर्यशील 394.15
सभ्यता विषयक 733.12 ⇨	समकक्षता 851 1 ⇨	समक्ष होना 1021.5 ⇨	न्यायप्रिय 874 36
सभ्यताहीन	समकक्ष पहुँचना	समक्ष होना 1021.5 ⇨	पक्षपातहीन 887 10
असभ्य 734 14	समकक्ष पहुँचना 1095 9 ⇨	समक्ष होना 1021.5 ⇨	समव्यवहारी 830.7
सभ्यताहीनताः	समकक्ष भाव	समान अशीय 939.12	स्थिरचित्त 355.6
असभ्यतः 734 24	मित्र भाव 752.16	समा	समजाति
सभ्य भाषा	समकक्ष होना	गोद 1012.7	सजाति 730.4
शिष्ट भाषा 421 24	समकक्ष होना 851 3 ⇨	समगति	समजातीय
सभ्यीकरण	समकर्मा	जङ्गलीय बल 1050.5	सजातीय 730 21
सभ्यीकरण 733.1 ⇨	समव्यवसायी 650.27	समगुण	समज्या
सभ्यीकरण 733.2 ⇨	समकाल	सदृश्य 309 20	सभा स्थल 695 11
समंगा	समकाल 59 1 ⇨	समगुणता	समक्ष
किशोरी 230 29	समकाल में	सादृश्य 309.3	गहन अध्ययन 321 24
समंगी	समकाल मे 59.4 ⇨	समः	धारणा 343 7
साधन संपन्न 558.19	समकालिक	भ्रनवशिष्ट 954 18	बुद्धि 301 1
समंजस	समकालीन 59.3	अभंजित 539 13	बुद्ध 334.7
संगत 438.6	समकालीन	अविभक्त 698.11	बोध 301.9
सर्वगुण संपन्न 313.17	समकालीन 59.3 ⇨	आद्योपांत 940 14	बोध क्षमता 301.12
सामंजस्य 702 1	समकालीनता	एकतापूर्ण 698 9	मन 351.2
सामंजस्यपूर्ण 702.6	समकालीनता 59.2 ⇨	एकीकृत 698 10	युक्तिपूर्णता 517.2
समंत	समकोटीय	पूर्णशिक 940.13	विचार 330 1
पूर्णांशिक 940.13	समकोटीय 936.11 ⇨	सर्वग 153.14	व्यवहार कुशलता 828.3
समंत प्रभ	समकोण	समग्रण	सामंजस्य 702 1
बोधिसत्त्व सूची 793.16	आयत 969.5	एकीकरण 698 3	सीख 332.6
समंत भद्र	समकोण 970.2 ⇨	समप्रतः	समझ के परे
बोधिसत्त्व सूची 793.16	समकोण चतुर्भुज	पूर्णांशतः 940 15	अज्ञेय 308.13
समंदर	आयत 969.5	समप्रता	समझदार
भंडार 870.3	समकोण समभुज चतुर्भुज	पूर्णांशता 940.5	बुद्धिमान 301.21
समुद्र 24.1	वर्ग आकृति 969.6	सर्वांगता 153 1	बोध प्राप्त 301.29
समंदर झाग	समकोण से विभक्त कोण	सामूहिकता 690.2	युक्ति कर्ता 517 10
समंदर झाग 87.18 ⇨	विषम कोण 970.3	समग्रह	वयस्क 229.21
समंस (अं)	समकोण स्थिति	तालः सम 458.28	समझदार होना
समन 875.17	खड़ापन 1029.3	समभ्रीकृत	व्यवहार कुशल होना 828.7
सम	प्रतिक्षिजता 1020.4	एकीकृत 698.10	समझदारी
अनेतर 945.6	समकोणीय	समभ्रीकृत	युक्तिपूर्णता 517.2
औसत शारीय 947.25	आयताकार 969.15	एकीकृत 698.10	वयस्कता 229.13
			व्यवहार कुशलता 828.3
			समझ न पाना
			प्रमित होना 342.9
			समझना
			अर्थ ग्रहण करना 427.21
			बोध करना 301.18
			मानना 849.14

## समझना बूझना

विचार करना 330 13  
सहमत होना 337 11  
**समझना बूझना**  
विचार करना 330 13  
**समझ बूझ कर**  
विचारितत 330 29  
सकल्पपूर्वक 500 16  
**समझ में आना**  
बोध होना 301 17  
स्पष्ट होना 822 13  
**समझ से**  
विचारितत 330 29  
**समझा [समझी]**  
प्राप्त (बोध) 301 28  
शिक्षाजित 321 49  
सहमत 337 19  
**समझाई**  
बोध प्रदान 301 10  
**समझाना**  
आपत्ति निवारण करना 326 13  
परामर्श देना 332 10  
व्याख्या करना 427 22  
सुझाव देना 332 11  
**समझाना बुझाना**  
परामर्श देना 332 10  
मनाना 374 13  
सीख देना 332 12  
**समझावा**  
परामर्श 332 1  
सुझाव 332 5  
**समझौता**  
अनुबंध 339 1  
अनुबंध पत्र 339 2  
सधि 906 5  
*समझौता 877 5 ⇌*  
सहमति 337 3  
सामंजस्य 702 1  
सौदा 658 3  
**समझौता करना**  
अनुबंध करना 339.24  
**समझौता कर्ता**  
अनुबंध कर्ता 339 35  
**समझौता पत्र**  
अनुबंध पत्र 339 2  
**समझौता भंग**  
अनुबंध भंग 338 14  
**समझौतावादी**  
अवसरवादी 827 18  
**समझौता बात**  
परक्रामण 658 8  
**समझौता होना**  
अनुबंध होना 339 23  
**समझौतवस**  
बूझ 334 7  
**समतभेद**  
मतभेदपूर्ण 338 36  
**समतल**  
रदा कृत 542 16

*समतल 986.9 ⇌*  
**समतल करना**  
रदा करना 542 9  
*समतल करना 986.8 ⇌*  
**समतल छत**  
*समतल छत 611.17 ⇌*  
**समतलता**  
अनुक्षितिजता 1020.5  
*समतलता 986 1 ⇌*  
**समतलन**  
*समतलन 986 2 ⇌*  
**समतलन चक्र**  
स्थापिकी चक्र 1077 43  
**समतल पर्वत**  
पठार 16 2  
**समतल भूमि**  
मैदान 11 1  
*समतल भूमि 986.3 ⇌*  
**समता**  
अनेतरता 945 3  
तुलना 309 1  
पक्षपातहीनता 887.2  
भेदभावहीनता 884 31  
समकक्षता 851 1  
समतलता 986 1  
सममिति 1026 2  
समव्यवहार 830 2  
समातरता 1026 1  
समाकारता 978 1  
सादृश्य 309 3  
**समतापक**  
समताप रेखा 51.12  
**समताप रेखा**  
*समताप रेखा 51 12 ⇌*  
**समतैक्य**  
सर्वसहमत 337 21  
**समतोल**  
ठीक तौल 962 6  
समभार 963 16  
समभारता 963 7  
**समतोलन**  
तौलन 962 2  
**समत्सर**  
ईर्ष्यापूर्ण 709 4  
वैमनस्यपूर्ण 706.21  
**समदना**  
उत्सव मनाना 56 7  
उपहार देना 640 10  
सिपुई करना 638.13  
**समदर्शन**  
पक्षपातहीनता 887.2  
**समदर्शी**  
दीर्घशील 394 15  
न्यायप्रिय 874 36  
पक्षपातहीन 887 10  
समव्यवहारी 830.7  
स्थिरचित्त 355.6

**समदाब रेखा**  
*समदाब रेखा 51.11 ⇌*  
**समदिशा**  
समातर 1026.7  
**समदिशता**  
समांतरता 1026.1  
**समदुःख**  
सहानुभूति कर्ता 393 19  
**समधी**  
समव्यवसायी 650.27  
**समधन**  
समधिन 724.5  
**समधिक**  
प्रत्याशातीत 944 9  
**समधिगत**  
समकक्ष आगत 1095 17  
**समधिगम**  
बोध प्राप्ति 301 11  
**समधिगमन**  
अधिलघन 1095 4  
**समधिन**  
*समधिन 724 5 ⇌*  
**समधियाना**  
*समधियाना 724 3 ⇌*  
**समधी**  
वैवाहिक सबधी 724 2  
*समधी 724.4 ⇌*  
**समधीरा**  
फ़िलनी 800.35  
**समन**  
घमेली 14 16  
बौद्ध भिक्षु 790.27  
*समन 875.17 ⇌*  
**समन प्रस्तुति**  
*समन प्रस्तुति 875 18 ⇌*  
**समनुज्ञा**  
अनुमति 337 5  
**समनुज्ञात**  
अनुमति दत्त 337 22  
**समन्युद्गोन (म)**  
आइसोटोन 78.20  
**समन्वय**  
क्रम 991 1  
परस्पर निर्वाह 702 3  
सामंजस्य 702 1  
**समन्वयन**  
क्रमबद्धन 991.16  
संश्लेषण 427.20  
सामंजस्य स्थापना 702.2  
**समन्वित**  
एकीकृत 698.10  
क्रमिक 991.21  
संयुक्त 1010.22  
-समन्वित  
सहित-प्रत्यय सूची 1006.5  
**समन्वित**  
सामंजस्यपूर्ण 702.6

**समपद**  
समपद मुद्रा 1029.6  
**समपद मुद्रा**  
*समपद मुद्रा 1029.6 ⇌*  
**समपाद**  
समपद मुद्रा 1029 6  
**समपार्थ**  
सममित 1026 8  
**समपार्थता**  
सममिति 1026.2  
**समपृष्ठ**  
समतल 986 9  
**समपृष्ठता**  
समतलता 986 1  
**समबाहु**  
सममित 1026 8  
**समबाहुता**  
सममिति 1026 2  
**समबुद्धि**  
स्थिरचित्त 355 6  
**समभागी**  
सहोत्तराधिकारी 623 3  
**समभार**  
संतुलन भार 1061 8  
*समभार 963 16 ⇌*  
**समभारता**  
*समभारता 963 7 ⇌*  
**समभार होना**  
*समभार होना 963 9 ⇌*  
**समभारित**  
समभार 963 16  
**समभिव्यवहार**  
व्यवहार 703 2  
**समभिसरण**  
समकक्ष आगमन 1095 3  
**समभुज**  
वर्ग आकृति 969 6  
सममित 1026 8  
**समभुजता**  
सममिति 1026 2  
**समभूमि**  
समतल भूमि 986.3  
**समभ्याहार**  
निकट आनयन 1053 2  
**सममति**  
दीर्घशील 394.15  
**सममात्र**  
समाकार 978.4  
**सममान**  
समभार 963.16  
**सममित**  
*सममित 1026.8 ⇌*  
**सममिति**  
*सममिति 1026.2 ⇌*  
**सममय**  
अंतिम अवसर 70.7  
अवसर 70.1  
आकृति 71.1



उपयुक्त अवसर 70.3  
काल 36.1  
घड़ी समय 50.3  
चतुर्थ आयाम 964 15  
नववीवन 231.1  
नियत काल 39 1  
परिस्थिति 69 5  
विश्राम काल 494 2  
शासन काल 890.9  
**समय अपालक**  
समय अपालक 62.14 ⇨  
**समय अपालन**  
समय अपालन 62.2 ⇨  
**समय का पंछी**  
काल पक्षी 36 7  
**समय के बाद होना**  
समय के बाद होना 62 12 ⇨  
**समय के साथ**  
अनुप्रवाह 1096 16  
**समय क्रम**  
काल क्रम 991 8  
**समय क्षेत्र**  
समय क्षेत्र 50.4 ⇨  
**समय क्षेत्र अंतर**  
समय क्षेत्र अंतर 50.5 ⇨  
**समय क्षेप**  
काल क्षेप 36 8  
**समय गति**  
कालचक्र 36 3  
**समयः घंटा**  
समय घोष 50 1  
**समय घोष**  
समय घोष 50 1 ⇨  
**समय घोषक**  
समय घोषक 50.30 ⇨  
**समय घोष होना**  
समय घोष होना 50.29 ⇨  
**समय दीड़ना**  
काल क्षेप होना 36 15  
**समय धारा**  
कालचक्र 36.3  
**समय न होना**  
व्यस्त होना 502.8  
**समय पर**  
उपयुक्त अवसर पर 70.16  
समयानुसारतः 61.7  
**समय पर होना**  
नियमित होना 71.6  
समय पर होना 61.3 ⇨  
**समय पालक**  
समय पालक 61.6 ⇨  
**समय पालन**  
समय पालन 61.2 ⇨  
**समय पालन करना**  
समय पालन करना 61.4 ⇨  
**समय पूर्व**  
पूर्वजात 62.19  
समय पूर्व 62.15 ⇨

**समय पूर्व जात शिशु**  
अकाल प्रसूत 244 15  
**समय पूर्वतः**  
समय पूर्वतः 62.24 ⇨  
**समय पूर्वता**  
समय पूर्वता 62 7 ⇨  
**समय बीतना**  
काल क्षेप होना 36 15  
**समय भंग**  
अनुबंध भंग; 338.14  
वचन भंग 338 16  
**समय भेदक**  
अनुबंध भंग कर्ता 338 46  
**समय माप एकक**  
समय माप एकक 958 11 ⇨  
**समय रहते**  
समयानुसारतः 61.7  
**समय विज्ञान**  
समय विज्ञान 41.8 ⇨  
**समय विज्ञानी**  
समय विज्ञानी 41 9 ⇨  
**समय विपरीत**  
असमयानुसार 62 13  
**समय सारणी**  
समय सारणी 993.11 ⇨  
**समय सूचना**  
समय सूचना 50 2 ⇨  
**समय से पहला**  
समय पूर्व 62 15  
**समय से पहले**  
समय पूर्वतः 62.24  
**समय से पहले होना**  
समय से पहले होना 62.11 ⇨  
**समयहीनता**  
अनश्वरता 37.3  
**समयाचार**  
कालानुसार आचरण 808.2  
**समयातीत**  
अनश्वर 37 9  
**समयानुकूल**  
समयानुसार 61 5  
**समयानुकूलता**  
अवसरानुकूलता 70 2  
**समयानुसार**  
समयानुसार 61.5 ⇨  
समयानुसारतः 61 7  
**समयानुसारतः**  
समयानुसारतः 61.7 ⇨  
**समयानुसारता**  
समयानुसारता 61 1 ⇨  
**समयोचित**  
अवसरानुकूल 70.14  
समयानुसार 61.5  
**समयोचितता**  
अवसरानुकूलता 70 2  
**समयोत्तर**  
समयोत्तरांत 62.16

**समयोपरांत**  
समयोपरांत 62.16 ⇨  
**समयोपरांततः**  
समयोपरांततः 62.25 ⇨  
**समयोपरांतता**  
समयोपरांतता 62.4 ⇨  
**समर**  
कामदेव 773 12  
युद्ध 905 4  
**समरथ**  
शक्तिशाली 487 20  
सक्षम 487 25  
साधन संपन्न 558 19  
**समर पीत**  
बैटलशिप 1072 49  
**समर भूमि**  
युद्ध क्षेत्र 905 6  
**समर वाद्य**  
युद्ध वाद्य 907 20  
**समर वैकेशन (अँ)**  
ग्रीष्म अवकाश 494 18  
**समर व्यसनी**  
युद्ध प्रेमी 907.42  
**समर शूर**  
रणवीर 396 9  
**समरस**  
अरोचक 401 10  
एकविध 310 9  
सदृश्य 309 20  
**समरसता**  
अरोचकता 401 1  
**समरांगण**  
युद्ध क्षेत्र 905.6  
**स्मरा**  
पारिश्रमिक 643 8  
पुण्य फल 260 11  
प्रतिफल 510.3  
**समरागम**  
युद्ध आरंभ 907 1  
**समरांभ**  
युद्ध आरंभ 907.1  
**स्मरूप**  
सदृश्य 309.20  
समरूप 967.20 ⇨  
**समरूपतः**  
प्रतिरूपतः 967.23  
**समरूपता**  
समरूपता 967.10 ⇨  
सादृश्य 309.3  
**समरूपी**  
समरूप 967.20  
**सम रेखा**  
ऊर्ध्व रेखा 968.18  
**समर्थ**  
अव्ययसाध्य 644.21  
**समर्थ्य**  
अर्घदान 1059.16  
अर्घ्य 750.5

**समर्थना**  
पूना 751 1  
**समर्थित**  
सम्मानित 854.19  
**समर्थ**  
प्रवीण 303.22  
बलिष्ठ 160 10  
योग्य 303.14  
शक्तिशाली 487.20  
सक्षम 487 25  
साधन संपन्न 558.19  
**समर्थक**  
अनुगामी 345.7  
अनुसमर्थक 329.23  
उत्थापक 1030 22  
पक्षधर 885.33  
मंडन कर्ता 326.17  
संपुष्ट कर्ता 337.26  
समर्थक 885.36 ⇨  
**समर्थक होना**  
समर्थन करना 885.22  
**समर्थता**  
क्षमता 487 7  
शक्तिशालिता 487.2  
साधन संपन्नता 558.2  
**समर्थन**  
अतिदेश 435 13  
अनुगमन 345 2  
अनुसमर्थन 329 3  
पक्षधरता 885 1  
प्रतिपादन 326 1  
प्रायोजन 855 4  
मंडन 326.2  
समर्थन 885.7 ⇨  
**समर्थन (दे.)**  
सहमति 337.3  
**समर्थन करना**  
समर्थन करना 885.22 ⇨  
**समर्थन कर्ता**  
अनुसमर्थक 329.23  
**समर्थन मींगना**  
समर्थन मींगना 329.15 ⇨  
**समर्थन याचक**  
समर्थन याचक 329.26 ⇨  
**समर्थन याचना**  
समर्थन याचना 329.5 ⇨  
**समर्थित**  
अनुसमर्थित 329.22  
संपुष्ट 337 25  
**समर्थक**  
उपहार प्रदाता 640,15  
चढ़ावा चढ़ाने वाला 750.18  
प्रदाता 638.15  
**समर्थन**  
उपहार 640.2  
उपहार प्रदान 640.1  
चढ़ावा 750.12  
दान 641.1

## समर्पण (दे.)

प्रत्यर्पण 868 11  
 बलि कर्म 754.1  
 बलि वस्तु 734 2  
 सिपुर्दगी 638 5  
**समर्पण (दे.)**  
 प्रदान 638 1  
**समर्पण कर्ता**  
 उपहार प्रदाता 640 15  
 प्रदाता 638 15  
**समर्पण भाव**  
 भक्ति 752 1  
**समर्पणीय**  
 उपहार्य 640 14  
**समर्पयिता**  
 उपहार प्रदाता 640 15  
 चढ़ावा चढ़ाने वाला 750.18  
 प्रदाता 638.15  
**समर्पित**  
 उपहृत 640 13  
 चढ़ावा चढ़ा 750.17  
 दान दत्त 641.23  
 प्रदत्त 638 14  
**समर्पितता**  
 भक्ति 752 1  
**समर्प्य**  
 उपहार्य 640 14  
**समर्प्यदि**  
 परिसीमित 1001 35  
 सम्य 733 13  
 ससीम 1001 33  
**समर्षि**  
 सगोत्रीय 729 13  
**समर्ह**  
 संगत 438 6  
**समर्हत्**  
 अर्हतासपन्न 303.16  
 महाज्ञानी 305.31  
**समर्हता**  
 उपयोगिता 524 6  
 संगतता 438 1  
 सुपात्रता 303 2  
**समर्हित**  
 सम्मानित 854 19  
**समर्ह्य**  
 प्रशंसनीय 841.30  
**समलंकरण**  
 अलकरण 227 1  
 शोभाञ्चयन 226.2  
**समलंकार**  
 अलंकार 854.13  
 उपाधि 856.1  
**समलंकृत**  
 अलंकृत 854 23  
**समलक्षण**  
 सदृश्य 309.20  
**समलक्षणता**  
 सादृश्य 309.3

**समलेपनी**  
 मिस्तर 559.28  
**समलोष्टकांछन**  
 समव्यवहारी 830.7  
**समवशी**  
 सहवशी 727.30  
**समवतरण**  
 अवतरण क्षेत्र 1069.19  
**समवतार**  
 स्नानघाट पैड़ी 613 5  
**समवधान**  
 ध्यान 331 1  
**समवधानी**  
 ध्यानमग्न 331.11  
**समवयस्क**  
 समवयस्क 229.24 ⇌  
**समवयस्कता**  
 समवयस्कता 229.14 ⇌  
**समवर्गीय**  
 समकोटीय 936 11  
**समवर्ण**  
 सजातीय 730 21  
**समवर्तिता**  
 समकालीनता 59 2  
**समवर्ती**  
 समकालीन 59.3  
**समवर्तुल पिंड**  
 समवर्तुल पिंड 976 5 ⇌  
**समवर्तुलाकार**  
 समवर्तुलाकार 976.17 ⇌  
**समवस्था**  
 अपरिवर्तन 533 1  
 निश्चलता 1038.2  
 स्थिति 1020.1  
**समवस्थित**  
 अविचल 500 15  
 आसीन 1028.10  
**समवहार**  
 राशि 686 2  
 संख्या 948 1  
**समवाय**  
 राशि 686.2  
 संग्रह 669.2  
 समुच्चय 686.1  
**समवायन**  
 मिलाई 389.2  
**समविभाजन**  
 समविभाजन 699.7 ⇌  
**सम विभन**  
 असमतल 987.6  
**समवृत्त**  
 समवर्तुलाकार 976.17  
**समवैक्षण**  
 अंतर्परीक्षण 284.27  
**समवैक्षित**  
 विचारित 330.19  
**समवेत**  
 संग्रहित 669.19

संबंधित 715.12  
 संयुक्त 1010.22  
 संराशित 667.16  
 समागत 694.31  
 समाविष्ट 1002.21  
 साझे का 621.27  
**समवेत गायक**  
 समूह गायक 460.34  
**समवेश**  
 वरदी 589.14  
**समव्यवसायी**  
 समव्यवसायी 650.27 ⇌  
**समव्यवहार**  
 समव्यवहार 830.2 ⇌  
**समव्यवहार करना**  
 समव्यवहार करना 830.5 ⇌  
**समव्यवहारी**  
 समव्यवहारी 830.7 ⇌  
**समशीतोष्ण जलवायु**  
 समशीतोष्ण जलवायु 51 3 ⇌  
**समशील**  
 अविचल 500 15  
 धैर्यशील 394 15  
 समव्यवहारी 830.7  
 समस्वभावी 836.13  
**समाष्टि**  
 पूर्णाशता 940.5  
 समाज 688.1  
 समूह 690.1  
 सामूहिकता 690 2  
**समाष्टीय**  
 सामूहिक 690.13  
**समसंख्यक**  
 समसंख्यक 949.29 ⇌  
**समसंख्या**  
 समसंख्या 949.8 ⇌  
**समसन**  
 संक्षेपण 980.5  
**समसमय**  
 समकाल 59.1  
**समसामयिक**  
 समकालीन 59 3  
 समयानुसार 61.5  
**समसामयिकता**  
 समकालीनता 59.2  
**समस्त**  
 पूर्णांशिक 940 13  
 संयुक्त 1010.22  
 सर्व 940 8  
**समस्ताता**  
 पूर्णाशता 940.5  
 सर्वता 940.1  
 सर्वांगता 153 1  
**समस्तरण**  
 समतलन 986.2  
**समस्तरता**  
 समतलता 986 1

**समस्तरीय**  
 समतल 986.9  
**समस्तरीयता**  
 अनुकृतिजता 1020.5  
**समस्थल**  
 मैदान 11.1  
**समस्थित**  
 समांतर 1026.7  
**समस्थिति**  
 समांतरता 1026.1  
**समस्थिति बल**  
 जड़त्वीय बल 1050 5  
**समस्या**  
 काव्य समस्या 694.12  
 पहेली 333 13  
 प्रश्न 333.1  
 वाद विषय 437.8  
 समस्या 333.11 ⇌  
**समस्यागत**  
 समस्यात्मक 333 25  
**समस्यात्मक**  
 समस्यात्मक 333 25 ⇌  
**समस्यापूर्ण**  
 समस्यात्मक 333.25  
**समस्या पूर्ति**  
 काव्य समस्या पूर्ति 694.13  
 समाधान 334.6  
**समस्या होना**  
 समस्या होना 333.20 ⇌  
**समस्वभावी**  
 समस्वभावी 836 13 ⇌  
**समस्वर**  
 सामंजस्यपूर्ण 702 6  
 सुरीला [सुरीली] 459.38  
 स्वर सामंजस्यपूर्ण 460 45  
**समस्वरता**  
 सुरीलापन 459.34  
 स्वर सामंजस्य 460.15  
**समी**  
 मनोरंजक दृश्य 312 7  
 रसानुभूति 455.4  
 वसंत काल 52.1  
**समांक**  
 समसंख्यक 949.29  
**समांगित दूध**  
 समांगित दूध 193.7 ⇌  
**समांगीकृत दूध**  
 समांगित दूध 193.7  
**समांतर**  
 समांतर 1026.7 ⇌  
**समांतर कोश**  
 थिसारस 446.14  
**समांतरता**  
 समांतरता 1026.1 ⇌  
**समांतर फलक**  
 समांतर फलक 977.20 ⇌  
**समांतर रेखा**  
 समांतर रेखा 968.17 ⇌

समांतरवर्ती	समागमन 694 17	समाचार लेखक	समात
समांतर 1026.7	समागम	सवाददाता 445 22	श्रवण 293.2
समांतर वाहन मार्ग	नदी संगम 21.20	समाचार विज्ञापि	समाता
यातायात लेन 1067.3	मिलन 389 1	समाचार विज्ञापि 445.21 ⇨	मातायुक्त 719 8
समांतर होना	रति संयोग 277 10	समाचार शीर्षक	समातृ
समांतर होना 1026.6 ⇨	संगति 696.1	समाचार शीर्षक 447.18 ⇨	मातायुक्त 719 8
समी वैधना	संघ 692.13	समाचार संपादक	समातुक
रसोत्पादन होना 468.33	संस्था 692 1	संपादक सूची 445 16	मातायुक्त 719 8
समांश	सभा 694 1	समाचार सम्मेलन	समात्मा
समान अंश 939 3	समागमन 694 17	समाचार सम्मेलन 445.19 ⇨	स्थिरचित्त 355 6
समांशी	समूह 690 1	समाज	समादर
अशाधिकारी 623 24	समागम (दे.)	कला उपभोक्ता गण 399 3	आदर 854 1
समान अशीय 939.12	व्यवस्थित समूह 690 5	कोटि 936 1	प्रतिष्ठा 849 2
समांस	समागमन	जनता 883.5	श्रद्धा 340 5
सामिष 205.3	आगमन 1093 1	जाति 730 1	सम्मान 854.3
समांसता	संगमन 21 21	दल 691 1	समादरण
सामिषता 205 1	समागमन 694.17 ⇨	मडली 691 5	आदर प्रदान 854 2
समा	समागम स्थल	राजनीतिक दल 885 15	समादरणीय
ऋतु 51.13	अड्डा 696 10	संघ 692 13	आदरणीय 854 18
काल 36 1	समागम होना	सभा 694 1	समादान
समाअ	समागम होना 694.25 ⇨	समाज 688.1 ⇨	आदान 637 1
श्रवण 293 2	समाधयन	समाज (दे.)	दान ग्रहण 641 16
समाअत	संग्रहण 669 1	समूह 690 1	समादृत
मुकदमा सुनवाई 876 1	समाधरण	समाजत	आदरणीय 854 18
श्रवण 293.2	कार्यान्वयन 505 5	मनुहार 374.6	समादेय
समाई	व्यवहार 828 1	समाजप्रिय	स्वागत योग्य 1059.26
आयतन 966 3	समव्यवहार 830 2	मिलनसार 696 24	समादेश
धारण क्षमता 966 4	समाधरित	समाजप्रियता	आज्ञा 34/ 1
बरतन पेटा 680.28	आधरित 808 12	मिलनसारिता 696 8	डिड्री 877.17
समाकर्षण	कार्यान्वित 505 27	सामाजिकता 688 2	धर्म आदेश 742 7
आकर्षण 1050.10	पालित (आज्ञा) 347 20	समाज प्रेमी	समाधान
समाकलन	समाधार	मिलनसार 696 24	आपत्ति निवारण 326 6
गणितीय समीकरण 952 5	प्रेषित समाचार 445 18	समाज भावना	उत्तर 334 1
समाकलन 947 8 ⇨	वृत्तांत 449 14	सामाजिकता 688 2	उपपत्ति 328 1
समाशोधन 631.16	समाधार 440 1 ⇨	समाज वर्ग	गणित फल 953 3
समाकलन करना	समाधार पत्र 445 1	समाज वर्ग 688.7 ⇨	बूझ 334 7
समाकलन करना 947 18 ⇨	समाधार (दे.)	समाजवाद	बोध प्राप्ति 301 11
समाकलन गणित	सूचना 441 1	समाजवाद 884.20 ⇨	संदेह निवारण 340 7
समाकलन गणित 953 7 ⇨	समाधार एजेंसी	समाज सुधार	समाधान 334.6 ⇨
समाकलित	समाधार एजेंसी 445 25 ⇨	कुप्रथा उन्मूलन 795.11	सांत्वना 393 4
समाकलित 947.23 ⇨	समाधार चित्र	समाज सेवक [समाज सेविका]	समाधान करना
समाकार	समाधार चित्र 472.11 ⇨	समाज सेवी 832 15	समाधान करना 334.10 ⇨
समाकार 978.4 ⇨	समाधार पत्र	समाज सेवा	समाधान कर्ता
समाकारता	समाधार पत्र 445.1 ⇨	समाज सेवा 832.6 ⇨	आपत्ति निवारक 326 22
समाकारता 978.1 ⇨	समाधार पत्र विक्रेता	समाज सेवी	समाधान कर्ता 334.15 ⇨
समाख्यात	पत्र पत्रिका विक्रेता सूची 420.7	समाज सेवी 832 15 ⇨	समाधान कर्ता 877.25 ⇨
गिना [गिनी] 950.12	समाधार प्रेष	समाजहीनता	समाधान कृत
घोषित 441.22	प्रेषित समाधार 445 18	एकांतता 697 3	समाधान कृत 877.24 ⇨
समागत	समाधार प्रेषक	समाजागार	समाधान न होना
अतिथि 183.16	संपादक सूची 445 16	कम्प्यूनिटी हाल 695.3	समाधान न होना 335.8 ⇨
आगत 1093.11	संवाददाता 445.22	समाजी	समाधानपूर्ण
गंतव्यप्राप्त 1100.6	समाधार प्रेषक संस्थान	संगतिया 461.4	आपत्ति निवारक 326.22
शुभागंतुक 1093.14	समाधार एजेंसी 445.25	संगी 696.2	समाधान संकेत
समागत 694.31 ⇨	समाधार प्रेषण	समाजीय	पहेली संकेत 333.18
समागति	समाधार प्रेषण 445.17 ⇨	संस्थानीय 692.31	समाधानहीनता
अपरिवर्तन 533.1	समाधार फ़िल्म	समाजीय 688.14 ⇨	असमाधान 335.3
गतव्य प्राप्ति 1100.3	समाधार चित्र 472 11	समाज्ञाप	गान होना
मार्ग संगम 1098.12		आज्ञापित 47.14	समाधान होना 334.9 ⇨

## समाधानित

समाधानित  
समाधानित 334.14 ⇨  
समाधान्य  
बुद्ध्य 334.16  
समाधि  
क्रत्र 254.18  
तपस्या 756.21  
दृढ आधारण 1019.7  
ध्यान 331.1  
मीन भाव 429.3  
योगांग सूची 756.14  
समाधि 755.3 ⇨  
समाधि मंदिर 255.5  
समाधि: अवस्था  
समाधि: स्थिति 755.5  
समाधिकार  
समकक्षता 851.1  
समाधिकारी  
समकक्ष 851.5  
सहोत्तराधिकारी 623.3  
समाधि क्षेत्र  
क्रत्रिस्तान 254.16  
समाधि स्थल 255.2  
समाधिगतता  
समाधिस्थता 755.4  
समाधि गर्भ  
बोधिसत्त्व सूची 793.16  
समाधि चक्रुतरा  
समाधि चक्रुतरा 255.3 ⇨  
समाधित  
प्रशमित 372.10  
समाधिस्थ 755.9  
समाधि ब्रह्मा  
समाधिस्थता 755.4  
समाधि प्राप्ति  
समाधिस्थता 755.4  
समाधि भवन  
मक्रबरा 255.7  
समाधि मंदिर  
समाधि मंदिर 255.5 ⇨  
समाधि मंदिर 745.40 ⇨  
समाधिमान  
समाधिस्थ 755.9  
समाधि लगाना  
समाधि लगाना 755.7 ⇨  
समाधि लेख  
क्रत्र लेख 254.20  
समाधिस्थ  
समाधिस्थ 755.9 ⇨  
समाधिस्थता  
तल्लीनता 331.6  
समाधिस्थता 755.4 ⇨  
समाधि स्थल  
समाधि स्थल 255.2 ⇨  
समाधि: स्थिति  
समाधि: स्थिति 755.5 ⇨  
समाधेय  
बुद्ध्य 334.16

स्वीकार्य 337.17  
समान  
औसत राशीय 947.25  
पद्यप्राण सूची 245.3  
सदृश्य 309.20  
समकक्ष 851.5  
समकोटीय 936.11  
समतल 986.9  
समभार 963.16  
समसंख्यक 949.29  
समाकार 978.4  
समान 309.22 ⇨  
समान (प्रतियोगी) 707.10  
समान अशीय 939.12  
सामान्य 311.3  
समान (प्रतियोगी)  
समान (प्रतियोगी) 707.10 ⇨  
समान अंश  
समान अंश 939.3 ⇨  
समान अंशीय  
समान अंशीय 939.12 ⇨  
समान अधिकार  
समकक्षता 851.1  
समान करना  
समकक्ष करना 851.4  
समान जाति: वस्तु समूह  
राशि 686.2  
समानता  
उपमा अलंकार 454.4  
तुलना 309.1  
भेदभावहीनता 884.31  
समकक्षता 851.1  
समभारता 963.7  
समरूपता 967.10  
समाकारता 978.1  
समानता 309.5 ⇨  
समान प्रतियोगिता 707.3  
सादृश्य 309.3  
समानता विकाना  
उपमा देना 309.14  
समानता बाधक पद  
उपमा अलंकार: अंग सूची 454.5  
समानता होना  
समकक्ष होना 851.3  
समान धर्म  
उपमा धर्म 454.6  
समान प्रतियोगिता  
समान प्रतियोगिता 707.3 ⇨  
समान प्रतिरोध  
समान प्रतियोगिता 707.3  
समानधन  
एकत्रण 667.1  
निकट आनयन 1053.2  
समानयन 1059.13 ⇨  
समान व्यवहार  
समव्यवहार 830.2  
समान व्यवहार करना  
समव्यवहार करना 830.5

समानशील  
समस्वभावी 836.13  
समानसंख्य  
समसंख्यक 949.29  
समान होना  
एक समान होना 309.13  
समानांतर  
समांतर 1026.7  
समानांतर रेखा  
समांतर रेखा 968.17  
समानांतरता  
समांतरता 1026.1  
समाना  
भराई करना 1004.8  
भरा जाना 1004.7  
समाविष्ट होना 1002.12  
सही आकार होना 961.15  
समानाधिकार  
समकक्षता 851.1  
समानाधिकारी  
समकक्ष 851.5  
समानार्थता  
पर्यायता 426.23  
समानार्थी  
पर्यायवाची 426.38  
समानांतरण  
समतलन 986.2  
समानुकूल  
सामजस्यपूर्ण 702.6  
समानुकूलता  
सामजस्य 702.1  
समानुकूलन  
सामजस्य स्थापना 702.2  
समानुपात  
अनुपात 947.9  
समानुपातता  
सुडीलता 155.2  
समानोदकता  
समानोदकता 729.10 ⇨  
समापक  
कार्य समापक 522.5  
समापक वाक्य  
अध्याय. समापक वाक्य 447.6  
समापति  
सयोग 69.1  
समाप्ति 942.6  
समापन  
कार्य समापन 522.2  
मारण 251.1  
सभा समापन 694.23  
समापन: उक्ति सूची  
समापन. उक्ति सूची 522.7 ⇨  
समापन समारोह सूची  
समापन समारोह सूची 522.8 ⇨  
समापन सूचना  
अध्याय: समापन सूचना 447.5  
समापन स्वर  
न्यास स्वर 459.20

समापनीय  
समाप्य 942.21  
समापन्न  
समाप्त 942.20  
समाप्त (कार्य) 522.4  
-समापन्न  
सहित प्रत्यय सूची 1006.5  
समापहरण  
ज्वरी 635.6  
समापादन  
कार्य समापन 522.2  
कार्यान्वयन 505.5  
समापित  
समाप्त 942.20  
समाप्त (कार्य) 522.4  
समापित (सभा)  
समापित (सभा) 694.30 ⇨  
समाप्त  
समापन उक्ति सूची 522.7  
समाप्त  
अंतगत 995.12  
नष्ट 531.7  
पुस्तक अंत 447.13  
समापित (सभा) 694.30  
समाप्त 942.20 ⇨  
समाप्त (कार्य) 522.4  
समाप्त (कार्य)  
समाप्त (कार्य) 522.4 ⇨  
समाप्त कर्ता  
कार्य समापक 522.5  
समाप्ततः  
अतत 995.17  
समाप्ततः 522.6 ⇨  
समाप्ततः (दे. अंततः)  
समाप्ततः 522.6  
समाप्तता  
समाप्ति 942.6  
समाप्त न होना  
समाप्त न होना 523.4 ⇨  
समाप्त न होना 943.8 ⇨  
समाप्त न हो पाना  
समाप्त न हो पाना 523.5 ⇨  
समाप्तमिदं  
समापन. उक्ति सूची 522.7  
समाप्त होना  
अंत होना 995.7  
समाप्त होना 942.12 ⇨  
समाप्ति  
अंत 995.1  
कार्य समाप्ति 522.1  
छोर 1000.3  
नाश 531.1  
निर्तात अंत 995.2  
मृत्यु 249.1  
विवाद समाधान 877.4  
समाधान 334.6  
समाप्ति 942.6 ⇨  
सीमा 1001.1

<b>समाप्तिक</b>	<b>समारूढ</b>	<b>समावर्जन</b>	<b>समावेष्टित</b>
अंतिम 995.11	ऊर्ध्वगत 1030 23	वशीकरण 758.22	सिकुड़ा [सिकुड़ी] 980.28
छोरस्थ 1000.15	सत्तारूढ 899.25	<b>समावर्तन</b>	<b>समाशोधन</b>
<b>समाप्य</b>	<b>समारोह</b>	दीक्षांत 321 6	समाकलन 947.8
समाप्य 942.21 ⇨	झाविंग चित्र 404 15	पुनरागमन 1093 5	समाशोधन 631 16 ⇨
<b>समाप्यता</b>	<b>समारोह</b>	वापसी यात्रा 1087.3	<b>समाशोधित</b>
समाप्यता 942.7 ⇨	आनंद मंगल 382 3	विद्यात संस्कार 798 24	समाकलित 947 23
<b>समाप्यत्व</b>	उत्सव 56 1	सोलह संस्कार सूची 798.3	<b>समाश्रय</b>
सबमजस 1080 14	समारोह 694.15 ⇨	<b>समावलोकन</b>	शरण 910 4
<b>समाप्यत्व</b>	सहभोज 183 4	कला समीक्षा 398 3	<b>समाश्रितता</b>
सबमजस 1080.14	<b>समारोहक</b>	<b>समावाय</b>	आधारितता 1019 1
<b>समाभाषण</b>	आरोही 1082 2	कपनी 692 4	<b>समाश्रयस्त</b>
वार्तालाप 435 1	<b>समारोहण</b>	राशि 686 2	सांत्वित 393.21
<b>समाभाषित</b>	आरोहण 1082 1	संदर्भ 437.3	<b>समाश्रयस</b>
सादृश्याभाषित 309 21	ऊर्ध्वगमन 1030 3	<b>समावायन</b>	सात्वता 393 4
<b>समाभेल</b>	समागमन 694 17	सपर्क स्थापना 703 6	<b>समाश्रयसन</b>
समावेश 1002.1	समारोहण 753 9 ⇨	<b>समावाहक</b>	अभय दान 910 3
<b>समाभेलन</b>	<b>समारोही</b>	आवाहन कर्ता 1055 10	भय नाशन 394.9
एकीकरण 698 3	ऊर्ध्वगामी 1030 24	<b>समावाहन</b>	सात्वता प्रदान 393.5
<b>समाभेलित</b>	<b>समार्थिक</b>	आयाधन 1055 5	<b>समासंग</b>
एकीकृत 698 10	पर्यायवाची 426 38	निभत्रण 1056 1	सलग्नता 1010 2
<b>समाभ्यन्त</b>	<b>समालंबन</b>	मत्रावाहन 1055.2	<b>समास</b>
पुन स्मृत 356 26	उत्थापन 1030 2	<b>समावाहित</b>	पूर्ण अक्ष 940 6
<b>समाभ्यन्त</b>	<b>समालक्ष्य</b>	आयाधित 1055 16	संयुति 1010 7
अविस्मरणीय 356 20	दृश्यमान 282 19	मत्रावाहित 1055 13	समास 425.53 ⇨
आनुवंशिकता 727 17	<b>समालब्ध</b>	<b>समाविष्ट</b>	<b>समासक्त</b>
वंश 727.1	प्रतिलब्ध 863 8	उत्तेजित 371 10	एकीकृत 698 10
<b>समायत</b>	सुलभ 943 10	ध्यानमग्न 331 11	वशीकृत 758.41
आयत 969 5	<b>समालब्धा</b>	समाविष्ट 1002.21 ⇨	<b>समासन</b>
वर्ग आकृति 969 6	खोजी 336.25	<b>समाविष्ट</b>	आसन ग्रहण 1028 1
<b>समायत्ताकार</b>	<b>समालब्धि</b>	सहित प्रत्यय सूची 1006 5	निकट आसन ग्रहण 1028 2
वर्गाकार 969 17	उपपत्ति 328 1	<b>समाविष्ट करना</b>	सयोजन 1010 10
<b>समाया [समाई]</b>	प्राप्ति 637 2	समाविष्ट करना 1002 13 ⇨	<b>समासन्न</b>
समाविष्ट 1002 21	<b>समालाप</b>	समाविष्ट होना 1002.12 ⇨	आसन्न 6/ 10
<b>समायुक्त</b>	आलाप 458 5	<b>समाविष्टि (प्र)</b>	<b>समासहीन</b>
ध्यानमग्न 331 11	भेटवार्ता 436 5	धारण क्षमता 966.4	युतिहीन 1010.25
<b>समायोग</b>	वार्तालाप 435.1	<b>समायुत</b>	<b>समासहीनता</b>
राशि 686 2	<b>समालापक</b>	आच्छादित 592 13	युतिहीनता 1010.12
लक्ष्य संघान 931 9	आलापक 458 57	<b>समायुक्त</b>	<b>समासादन</b>
<b>समारंजक</b>	<b>समालिप्त</b>	कार्यान्वित 505.27	आधारण 1019.5
डिस्टेंपर 290 13	आलेपित 292 13	प.र.टी [पलटी] 1027 23	<b>समासीन</b>
<b>समारंभ</b>	आसक्त 365 5	<b>समायुति</b>	निकट आसीन 1028.11
आरंभ 994 3	<b>समालोकन</b>	विद्यांत संस्कार 798 24	<b>समाहरण</b>
उपक्रम 521.4	अवलोकन 284.1	<b>समावेश</b>	जोड़ कर्म. 954.2
कार्य आरंभ 521.1	विचारण 330.5	धारण क्षमता 966.4	संराशिकरण 667.4
मगलाचरण 465.7	<b>समालोकित</b>	समावेश 1002 1 ⇨	<b>समाहार</b>
समा आरंभ 694.22	निरीक्षित 284 54	<b>समावेश (दे.)</b>	उपपत्ति 328.1
<b>समारंभण</b>	<b>समालोकी</b>	प्रवेश 1094.1	उपसंहार 466.18
आरंभण 994 4	विचारक 330 6	<b>समावेशन</b>	जोड़ फल 954.3
प्रवर्तन 893.3	स्थिरचित्त 355 6	प्रविष्टायन 1094.4	भडार 670 3
<b>समारंभ्य</b>	<b>समालोचक</b>	<b>समावेश स्थान</b>	मिषा कंठ 459.37
आरंभित 521.6	विवेचक 427.31	धारण क्षमता 966.4	समावेश 1002.1
<b>समारंभ्यक</b>	समीक्षक 398 5	<b>समावेशित</b>	समुच्चय 686 1
आरंभ कर्ता 521.7	<b>समालोचन</b>	आसीन 1028.10	समुदाय 687.1
<b>समारंभ्यन</b>	विचारण 330.5	प्रविष्ट 1094.24	समूह 890.1
पूजन 751.2	विवेचन 427.14	समाविष्ट 1002.21	सारांश 449.12
<b>समारंभ्य</b>	<b>समालोचना</b>		<b>समाहित</b>
प्रसंसनीय 841.30	कला समीक्षा 398.3		एकत्रित 667.12

## समाहृत

निर्धारित	328 14
समाधानित	334.14
समाविष्ट	1002.21
सम्मिश्रित	1008 26
सामूहिक	890 13
<b>समाहृत</b>	
आयाचित	1055 16
आवाहित	1055.11
<b>समाहृति</b>	
आयाचन	1055 5
<b>समिधन</b>	
अग्न्याधान	107 1
ईधन	110 1
जलावन	110 4
<b>समित</b>	
अंगीकृत	1002 23
अनुमति दत्त	337 22
सादृश्य उक्ति सूची	309.26
<b>समित्तियज्य</b>	
जयी	912 15
विष्णु	768 1
<b>समिति</b>	
दल	691 1
मिलन	389 1
सभा	694 1
समिति	692.20 ⇨
सादृश्य	309 3
<b>समित्र</b>	
मित्रयुक्त	705 28
ससहाय	700 26
<b>समित्रता</b>	
ससहायता	700.12
<b>समित्र होना</b>	
समित्र होना	705 22 ⇨
<b>समिदाधान</b>	
आहुति दान	753 6
<b>समिद्ध</b>	
अग्न्याधानित	107 13
<b>समिध</b>	
अग्नि	106 1
ईधन	110 1
जलावन	110 4
<b>समिधा</b>	
जलावन	110.4
समिधा	753.29 ⇨
<b>समीकरण</b>	
गणित कर्म	953.2
गणित फल	953.3
गणितीय समीकरण	952 5
तौलन	962 2
सरलेषण	427.20
समाकलन	947.8
<b>समीकरण सूत्र</b>	
समीकरण सूत्र	952.6 ⇨
<b>समीकृत</b>	
जुड़ा [जुड़ी]	954 13
समाकलित	947 23

<b>समीकृति</b>	
गणितीय समीकरण	952 5
<b>समीक्षक</b>	
विचारक	330 6
विवेचक	427 31
समीक्षक	398.5 ⇨
<b>समीक्षकीय प्रतिभा</b>	
समीक्षकीय प्रतिभा	398.6 ⇨
<b>समीक्षण</b>	
अवलोकन	284 1
विवेचन	427 14
सिंहावलोकन	330 10
<b>समीक्षा</b>	
कला समीक्षा	398 3
तथ्यान्वेषण	336 1
परामर्श	332 1
मत परिवर्तन	344.3
मीमांसा	427.12
विवेचना	427 13
<b>समीक्षा करना</b>	
समीक्षा करना	398 7 ⇨
<b>समीक्षा: मापदंड</b>	
समीक्षा मापदंड	398 4 ⇨
<b>समीधी</b>	
प्रशंसा	841 1
<b>समीधीन</b>	
अवसरानुकूल	70.14
आवश्यकतानुकूल	524 22
न्यायपूर्ण	874 34
संगत	438.6
<b>समीधीनता</b>	
अवसरानुकूलता	70 2
सगतता	438 1
सामंजस्य	702.1
<b>समीप</b>	
अदाजन	947.28
आसन्न	67.10
उपस्थित	1021.9
निकट मे	31 9
<b>समीप आगमन</b>	
निकट आगमन	1093.4
<b>समीपतः</b>	
अदाजन	947 28
<b>समीपता</b>	
घनिष्ठता	704.13
घनिष्ठता	704 13
निकटता	31.1
सटापन	31.2
स्वजन भावना	725.2
<b>समीपन</b>	
निकट आगमन	1093.4
<b>समीपवर्ती</b>	
निकटस्थ	31.7
<b>समीपस्थ</b>	
निकटस्थ	31.7
<b>समीपस्थता</b>	
निकटता	31 1

<b>समीप होना</b>	
निकट होना	31.5
<b>समीपी</b>	
घनिष्ठ	704.27
निकटस्थ	31 7
रिश्तेदार	715.6
स्वजनीय	725.5
<b>समीपता</b>	
ससीपता	1001 2
<b>समीर</b>	
झोका	85 12
बयार	85 14
वायु	85 1
सघल वायु	85 4
<b>समीरक</b>	
ऊर्जायक	101.15
<b>समीरण</b>	
अनुप्राणन	1046 6
उत्प्रेरण	499 2
ऊर्जायन	101.6
झोका	85 12
वायु	85 1
विष्णु	768 1
सघल वायु	85.4
<b>समीरित</b>	
ऊर्जायित	101 14
गत्वरित	1046.21
<b>समीहा /</b>	
खोज	336 4
प्रयत्न	489.1
<b>समीहित</b>	
इच्छित	359 19
प्रयत्नित	489 8
<b>समुद्र</b>	
समुद्र	24 1
<b>समुद्र</b>	
समुद्र	24 1
<b>समुधित</b>	
आवश्यकतानुकूल	524 22
नितिकतापूर्ण	815.5
पर्याप्त	941.6
सगत	438.6
<b>समुधितता</b>	
अवसरानुकूलता	70.2
पर्याप्तता	941 1
संगतता	438 1
सामंजस्य	702.1
<b>समुध्वय</b>	
ढेर	686.6
समुध्वय	686.1 ⇨
समुदाय	687.1
<b>समुध्वयन</b>	
एकत्रण	687.1
<b>समुध्वार</b>	
शुद्ध उध्वारण	411.4
<b>समुध्वित</b>	
क्रमिक	991.21
संग्रहित	689.19

<b>समुध्वयास</b>	
दीर्घ श्वास	245.8
<b>समुज्ज्वल</b>	
आलोकित	285 45
<b>समुत्कटकित</b>	
रोमांचित	382 21
<b>समुत्कंठ</b>	
उद्दिग्ध	377 13
<b>समुत्कट</b>	
अदम्य	519 28
<b>समुत्कीर्ण</b>	
उत्कीर्ण	406 41
<b>समुत्कीर्णन</b>	
उत्खनन	1018 2
<b>समुत्कमण</b>	
ऊर्ध्वगमन	1030 3
<b>समुत्खनन</b>	
उत्खनन	1018 2
<b>समुत्खनित</b>	
उत्खनित	1018.16
<b>समुत्खनित्र</b>	
उत्खनित्र	559 4
<b>समुत्खात</b>	
उत्खनित	1018 16
<b>समुत्तभन</b>	
प्रोत्तभन	1062.10
<b>समुत्तिष्ठन</b>	
उठ खडन	1029.2
<b>समुत्तुंग</b>	
अत्युच्च	982.10
<b>समुत्तुंगता</b>	
अत्युच्चता	982.3
<b>समुत्तोजक</b>	
उत्प्रेरक	499 9
ऊर्जायक	101.15
<b>समुत्तोजन</b>	
ऊर्जायन	101 6
भावोदीपन	358 8
<b>समुत्तोजना</b>	
प्रेरणा	499.1
<b>समुत्तोलन</b>	
तौलन	962.2
लीवर उत्तोलन	1062 2
<b>समुत्थान</b>	
मृतकः पुनरुज्जीवन	250.9
<b>समुत्थापक</b>	
उत्थापक	1030.22
प्रोत्थापक	1062.32
<b>समुत्थापित</b>	
प्रोत्थापित	1062.31
<b>समुत्पतित</b>	
उड़ा [उड़ी]	1030.31
<b>समुत्पन्न</b>	
जन्मा [जन्मी]	248.10
<b>समुत्सर्पी</b>	
ऊर्ध्वगामी	1030.24
<b>समुत्सारण</b>	
उत्सारण	1059.12

पीछा 1096.3  
**समुत्साह**  
 आनंद 382.1  
 उद्यतता 491.3  
 धैर्य 394.6  
**समुत्साहन**  
 उत्तरण 499.2  
**समुत्साहित**  
 उत्साहित 491.10  
**समुत्सुक**  
 चिंताग्रस्त 377.10  
**समुत्सोध**  
 उद्यता 982.1  
**समुदंधन**  
 जल उद्ग्रहन 19.22  
**समुदंत**  
 उँडेल 668.2  
 उत्क्रोतशील 21.35  
 ऊपर तक 1004.17  
**समुद**  
 प्रसन्नतापूर्वक 381.11  
 समुद्र 24.1  
**समुद्य**  
 राशि 686.2  
 लग्न 49.11  
**समुदाय**  
 दल 691.1  
 पूर्ण अंश 940.6  
 राशि 686.2  
 समागमन 694.17  
 समुदाय 687.1 ⇨  
 समूह 690.1  
 सेना पृष्ठ 933.3  
**समुदित**  
 सहमत 337.19  
**-समुदित**  
 सहितः प्रत्यय सूची 1006.5  
**समुद्वग**  
 उन्नमित 1025.7  
 ऊर्ध्वगत 1030.23  
 गोल डिब्बा 678.2  
**समुद्वगत**  
 प्रोद्वगत 988.10  
**समुद्वगम**  
 उदय 5.7  
**समुद्वगमन**  
 उत्क्रोतन 21.2  
**समुद्वगार**  
 उक्ति 434.1  
 भाषण 430.8  
**समुद्वगीत**  
 गाथित 460.46  
**समुद्वग्रहीत**  
 उद्वग्रहीत 1062.34  
**समुद्वधात**  
 अन्युदेश 437.5  
**समुद्वधातक**  
 अन्युदेशक 437.12

**समुदघोषणा**  
 घोषणा 441.10  
**समुद्विष्ट**  
 उद्विष्ट 508.8  
 निदेशित 347.16  
 निर्धारित 328.14  
 परिभाषित 317.17  
**समुदेश**  
 निर्देश 347.4  
**समुदेश्य**  
 उदेश्य 508.2  
**समुद्धारण**  
 उद्धारण 424.11  
**समुद्दत्ता**  
 जीर्णोद्धारक 598.15  
**समुद्धार**  
 असुर वध 251.4  
 उन्नति 534.1  
 उपकार 832.1  
 नवीकरण 64.6  
 पार उत्तारण 1097.4  
**समुद्धारक**  
 उत्पापक 1030.22  
**समुद्घत**  
 जीर्णोद्घत 598.14  
**समुद्बोधन**  
 उज्जागरण 265.3  
 उद्बोधन 499.3  
**समुद्विभज्ज**  
 उद्विभज्ज 111.7  
**समुद्विभद**  
 उद्विभज्ज 111.7  
**समुद्वभूत**  
 उत्पन्न 546.9  
**समुद्वधत**  
 उद्यत 491.15  
 प्रवृत्त 502.10  
**समुद्वधमी**  
 परिश्रमी 493.9  
**समुद्र**  
 धारः उपमान सूची 948.24  
 जलीय धरातल 25.2  
 निम्नता उपमान सूची 983.7  
 इत्साः धरण सूची 786.3  
 भंडार 670.3  
 मुद्रांकित 414.24  
 शिव 787.1  
 समुद्र 24.1 ⇨  
 समुद्र मार्ग 1066.8  
**समुद्र उत्तल**  
 समुद्र उत्तल 985.6 ⇨  
**समुद्र कटक**  
 समुद्र पोत 1072.40  
**समुद्र काक**  
 जलपक्षी सूची 126.7  
**समुद्रग**  
 नायिक 1080.21

**समुद्रगा**  
 नदी 20.1  
**समुद्र गामी**  
 खलासी 1080.22  
 समुद्री व्यापारी 657.7  
**समुद्रज**  
 मूंगा 97.1  
 मोती 97.2  
**समुद्र तट**  
 समुद्र तट 25.9 ⇨  
**समुद्र तल**  
 समुद्र नितल 985.11  
**समुद्र ताल**  
 तटवर्ती प्रवाहहीन जल 21.13  
**समुद्र दीप्ति**  
 बड़वा दीप्ति 287.18  
**समुद्र धारा**  
 समुद्री जलधारा 21.17  
**समुद्र नवनीतक**  
 अमृत 177.1  
**समुद्र नितल**  
 समुद्र नितल 985.11 ⇨  
**समुद्रनेभि**  
 पृथ्वी 9.1  
**समुद्र पर्यंत पृथ्वी का स्वामी**  
 चक्रवर्ती सम्राट 882.27  
**समुद्र पोत**  
 समुद्र पोत 1072.40 ⇨  
**समुद्र फेन**  
 समदर झाग 87.18  
**समुद्र बाहु**  
 सैंकरी खाड़ी 24.9  
**समुद्र म्थनः म्थनी**  
 दर पर्यंत 17.12  
**समुद्र म्थन से प्राप्त मणि**  
 कौस्तुभ मणि 96.16  
**समुद्र महिषी**  
 गंगा नदी 20.10  
**समुद्र मार्ग**  
 समुद्र मार्ग 1066.8 ⇨  
**समुद्र में छिपा पर्यंत**  
 शैतक 17.14  
**समुद्र यात्रा**  
 समुद्र यात्रा 1087.17 ⇨  
**समुद्र यात्री**  
 समुद्र यात्री 1087.18 ⇨  
**समुद्र यान**  
 समुद्र पोत 1072.40  
 समुद्र यात्रा 1087.17  
**समुद्र लहर**  
 समुद्री लहर 1040.18  
**समुद्र बेला**  
 समुद्री लहर 1040.18  
**समुद्र व्यापारी**  
 समुद्री व्यापारी 657.7  
**समुद्र सतह**  
 समुद्र उत्तल 985.6

**समुद्र समीर**  
 समुद्र समीर 85.18 ⇨  
**समुद्र स्तर**  
 समुद्र उत्तल 985.6  
**समुद्रांत**  
 समुद्र तट 25.9  
**समुद्रांबरा**  
 पृथ्वी 9.1  
**समुद्रारु**  
 राम. पुल 1065.13  
 खेल 124.8  
**समुद्रावृत धरातल**  
 जलीय धरातल 25.2  
**समुद्री**  
 नाविकीय 1080.40  
 समुद्रीय 24.23  
**समुद्री घोड़ा**  
 अश्वमीन 125.2  
**समुद्री जलधारा**  
 समुद्री जलधारा 21.17 ⇨  
**समुद्री जहाज़**  
 समुद्र पोत 1072.40  
**समुद्री डाक**  
 समुद्री डाक 444.26 ⇨  
**समुद्री डाकू**  
 समुद्री बटमार 864.36  
**समुद्री तुफान**  
 समुद्री तुफान 85.9 ⇨  
**समुद्री नमक**  
 समुद्री नमक 279.7 ⇨  
**समुद्री नहर**  
 समुद्री नहर 24.12 ⇨  
**समुद्री बटमार**  
 समुद्री बटमार 864.36 ⇨  
**समुद्री बेका**  
 बेका 1072.51  
**समुद्री बेला तट**  
 समुद्री बेला तट 25.22 ⇨  
**समुद्री मील**  
 समुद्री मील 959.26 ⇨  
**समुद्री मीलः .001**  
 फ़ीदम 959.24  
**समुद्री मील प्रति घंटा**  
 जलयान गति माप 958.32  
**समुद्रीय**  
 समुद्रीय 24.23 ⇨  
**समुद्री लहर**  
 समुद्री लहर 1040.18 ⇨  
**समुद्री विमान**  
 नौका विमान 1074.11  
**समुद्री व्यापारी**  
 समुद्री व्यापारी 657.7 ⇨  
**समुद्री हिम शैल**  
 प्लायी हिम शैल 90.7  
**समुद्रहन**  
 जल उद्ग्रहन 19.22  
**समुद्राहन**  
 विवाहन 799.6

## समुद्दिग्म

### समुद्दिग्म

आतंकित 395.23

**समुद्ग**  
गोल पिटारी 677.14

**समुद्गक**  
गोल पिटारी 677.14

**समुद्गत**  
उच्च 982.7  
उन्नत 534.10  
सभ्य 733.13

**समुद्गद**  
उन्नतित 1025.7

**समुद्गमन**  
लीवर उत्तोलन 1062.2

**समुद्गयन**  
उन्नतन 1025.1  
ऊर्ध्व वहन 1062.1

**समुद्गूलन**  
उच्छेदन 1017.1

**समुद्गकरण**  
उपकरण 558.7  
साज्र सामान 558.6  
सामान 666.3

**समुद्गक्रम**  
अभियान 907.24  
पूर्व पीठिका 466.17  
भूमिका 447.8

**समुद्गम**  
संपर्क 703.5

**समुद्गमन**  
अंगीकरण 1002.3  
निकट आगमन 1093.4  
संपर्क स्थापना 703.6

**समुद्गनयन**  
निकट आनयन 1053.2

**समुद्गनीत**  
निकट आनीत 1053.12

**समुद्गयुक्त**  
अहंतासपत्र 303.16  
आवश्यकतानुकूल 524.22  
चरितार्थ 438.8  
पर्याप्त 941.6  
विनियोज्य 438.7  
संगत 438.6  
ससद योग्य 889.24  
सामजस्वपूर्ण 702.6

**समुद्गयुक्तता**  
संगतता 438.1

**समुद्गवेशन**  
निकट आसन ग्रहण 1028.2

**समुद्गस्थान**  
निकटता 31.1

**समुद्गस्थित**  
आसन्न 67.10  
आसनी 1028.10  
उपस्थित 1021.9  
समकालीन 59.3  
सहसा आगत 1093.15

### समुपस्थिति

उपस्थिति 1021.2  
गंतव्य प्राप्ति 1100.3  
निकटता 31.1

**समुपगत**  
गंतव्यप्राप्त 1100.6  
पहुँचा [पहुँची] 1053.16

**समुपागम**  
संयोग 69.1

**समुपार्जन**  
अर्जन 648.1

**समुपालंभ**  
उपालंभ 843.13

**समुपेत**  
सराशित 667.16  
सवरित 667.18

**समुपोह**  
निकट आनीत 1053.12

**समुपलस**  
आलोकित 285.45

**समुपलसित**  
प्रसन्न 381.7

**समुप्लास**  
अध्याय 447.2  
घर्षा 436.1  
प्रकाश 287.1

**समुप्लासन**  
अभिव्यक्ति 428.1  
आलोकन 285.2  
आलोक वर्धन 285.5

**समुह**  
सीधे 1098.32

**समुधा [समुधी]**  
अभंजित 539.13  
अविभक्त 698.11  
आद्योपाय 940.14  
पूर्णांशिक 940.13  
सर्वांग 153.14

**समुधापन**  
पूर्णांशता 940.5

**समुद्ध**  
एकत्रित 667.12  
संग्रहित 669.19  
समुच्चय 686.1  
सहित 1006.2

**समुद्**  
सौभर 127.48  
सेबल 582.21

**समुद् सील**  
क्रूर सील 124.10

**समुद्**  
साबर 582.20

**समुद्**  
साकार 967.12

**समुद्**  
साकारता 967.1

**समुद्**  
समुक्त 665.7

### समुह

कोटि 936.1  
गट्टर 674.1  
जनता 883.5  
दल 691.1  
भंडार 670.3  
मडली 691.5  
यात्री दल 1088.5  
यान समूह 1088.6  
संग्रह 669.2  
समुच्चय 686.1  
समुह 690.1 ⇨

**समूह (दे.)**  
समुदाय 687.1

**समूह अभ्यास**  
द्विल 1083.6

**समूह अस्थिता**  
सामूहिकता 690.2

**समूह उद्धृत**  
दल उद्धान 1081.15

**समूह उद्धान**  
दल उद्धान 1081.15

**समूहक**  
एकत्रक 667.13

**समूह कार्य**  
समाज सेवा 832.6

**समूह खेल**  
सहभाग्य खेल 475.4

**समूह गायक**  
समूह गायक 460.34 ⇨

**समूह गायन**  
समूह गायन 460.33 ⇨

**समूह गीत**  
समूह गीत 451.27 ⇨

**समूह घोष**  
आदोलन: नारा 902.9

**समूहघर्या**  
दलघर्या 696.11

**समूहहत:**  
समूहहत: 690.14 ⇨

**समूहता**  
सर्वता 940.1  
सामूहिकता 690.2

**समूहन**  
एकत्रण 667.1  
संवरण 667.5  
समागमन 694.17

**समूहन निषेध**  
निषेधाज्ञा 880.3

**समूह नायक**  
दल नायक 852.6

**समूह नायकता**  
दल नायकता 852.5

**समूह निर्वासन**  
समूह निर्वासन 870.12 ⇨

**समूह निर्वासित**  
समूह निर्वासित 870.29 ⇨

### समूहनी

झाड़ू 218.17

**समूह पूजा**  
मास 751.21

**समूह प्रतिनिधि**  
अभिवक्ता गण 467.4

**समूहबद्ध**  
एकतापूर्ण 698.9

**समूहबद्धता**  
एकता 698.1

**समूह भंग करना**  
विसमूहित करना 694.26

**समूह भवन**  
समूह भवन 602.17 ⇨

**समूह में**  
समूहता: 690.14

**समूह यात्रा**  
दल यात्रा 1088.4  
सार्थ यात्रा 657.12

**समूह वाचक संज्ञा**  
संज्ञा सूची 425.15

**समूह वास**  
दलघर्या 696.11

**समूह विसर्जन**  
विसमूहन 694.24

**समूह वेश**  
वरदी 589.14

**समूह संचलन**  
मार्थ 1083.11

**समूहतिरिक्तता**  
अतिरिक्तता 945.1

**समूहित**  
एकत्रित 667.12  
पक्षिबद्ध 667.15  
समागत 694.31

**समूहीय**  
सामूहिक 690.13

**समूद्ध**  
अलंकृत 227.4  
फलित 118.16  
समूद्ध 626.11 ⇨

**समूद्ध (दे.)**  
उच्चवित 625.7

**समूद्धता**  
उच्चवितता 625.3

**समूद्ध होना**  
समूद्ध होना 626.10 ⇨

**समूद्धि**  
अत्यधिकता 944.2  
उन्नति 534.1  
समूद्धि 626.1 ⇨

**समूद्धि काल**  
उन्नति काल 534.2

**समूद्धि: देवी**  
लक्ष्मी 775.1

**समूद्धिप्रद**  
समूद्धिप्रद 626.12 ⇨



समृद्धिशाली  
समृद्ध 626 11  
सौभाग्यशाली 260 33  
समृद्धि होना  
समृद्ध होना 626 10  
समेकितता  
संयुक्तता 1010 8  
समेट  
सिकुड़न 980 10  
समेटन  
सवरण 667 5  
समेटना  
एकत्रित करना 667 7  
तह करना 975 24  
सकुचित करना 980 16  
सग्रह करना 669 18  
संवरण करना 667 11  
सिकोड़ना 980 18  
समेटा [समेटी]  
सिकुड़ा [सिकुड़ी] 980 28  
समेत  
सग संग 696 26  
सयुक्त 1010 22  
सहित 1006 2  
समेतर कोण  
विषम कोण 970 3  
समैत्री  
मित्रतापूर्ण 705 26  
समोद  
आनंदित 382 17  
रोचक 400 12  
समोदक  
घोल 1008 9  
समोना  
समाविष्ट करना 1002 13  
समोवार  
चाय काफी बरतन सूची 680 20  
समोवार 109 19 ⇨  
समोवार 682 22 ⇨  
समोसा  
समोसा 200.22 ⇨  
सम्-  
अच्छा उपसर्ग सूची 313 19  
सम्भ्र  
गुरुभ्र 742 10  
विमर्श 330 11  
सम्भ्रित  
विमर्शित 330 28  
सम्भ्रत  
अनुमति दत्त 337 22  
तर्कपूर्ण 325.21  
पारित 329.27  
लोकमान्य 849 21  
सहमत 337 19  
सहमति प्राप्त 337 20  
सम्भ्रतता  
सहमति 337 3

सम्भ्रत स्तर  
मानदड 957 5  
सम्भ्रत स्तरीय  
मानकयुक्त 957 7  
सम्भ्रति  
अनुमति 337 5  
परामर्श 332 1  
मत 343 1  
विचार 330 1  
सहमति 337 3  
सुझाव 332 5  
स्वीकृति 337 1  
सम्भ्रति अदत्त  
अनुमति अदत्त 338 35  
सम्भ्रति अयोग्य  
अनुमति अयोग्य 338 34  
सम्भ्रति देना  
अनुमति देना 337 12  
सम्भ्रति न देना  
अनुमति न देना 338 19  
सम्भ्रति पत्र  
अनुमति पत्र 337 6  
सम्भ्रति प्रदत्त  
अनुमति दत्त 337 22  
सम्भ्रति प्रदाता  
अनुमति प्रदाता 337 24  
सम्भ्रति प्राप्त  
अनुमति प्राप्त 337 23  
सम्भ्रतिहीनता  
अननुमति 338 3  
सम्भ्रन  
समन 875 17  
सम्भ्रद  
प्रतिरोध 915 1  
मुठभेड़ 915 2  
विवाद 324 1  
सघर्ष 905 1  
सम्भ्रदन  
उत्पीड़न 391 10  
घुटाई 540 3  
मालिश 225 2  
रौंदाई 541 4  
सम्भ्रदी  
घर्षक 541 11  
मर्दन कर्ता 911 11  
मालिशिया 225.3  
सम्भ्रशोक  
सहलाने वाला 393 23  
सम्भ्रशन  
सहलावन 393 9  
सम्भ्रशी  
परामर्शक 332 14  
सहलाने वाला 393 23  
सम्भ्रा  
समभ्रिति 1026 2  
समसंख्या 949 8  
समाकारता 978 1

सम्भ्राता  
मापक 958 58  
मापने वाला 959 61  
सहोदर 723 27  
सम्भ्राद  
उन्माद 354 4  
तीव्रोन्माद 354 8  
सम्भ्रान  
पुरस्कार 857 1  
प्रतिष्ठा 849 2  
सत्कार 184 1  
सम्भ्रान 854 3 ⇨  
सम्भ्रान आसन  
सम्भ्रान स्थान 854 7  
सम्भ्रान उपहार  
सम्भ्रान उपहार 854 4 ⇨  
सम्भ्रान करना  
सम्भ्रान करना 854 16 ⇨  
सम्भ्रान: कारण  
सम्भ्रान कारण 854 5 ⇨  
सम्भ्रान. कारण सूची  
सम्भ्रान कारण सूची 854 6 ⇨  
सम्भ्रान तलवार  
सम्भ्रान तलवार 857 19 ⇨  
सम्भ्रान तिलक  
सम्भ्रान तिलक 857 20 ⇨  
सम्भ्रान देना  
अलकृत करना 854 17  
सम्भ्रानन  
अभिनदन 854 8  
सम्भ्रानना  
पुरस्कार देना 857 22  
सम्भ्रान करना 854 16  
सम्भ्राननीय  
पनाथ स्त्रोघन आदि सूची 444 41  
सम्भ्रान्य 854 20  
सम्भ्रान पत्र  
अभिनदन पत्र 854 10  
सम्भ्रान पद  
सम्भ्रान स्थान 854 7  
सम्भ्रान परेड  
सम्भ्रान परेड 1083 9 ⇨  
सम्भ्रानपूर्वक  
सम्भ्रानपूर्वक 854 24 ⇨  
सम्भ्रान फलक  
सम्भ्रान फलक 857.14 ⇨  
सम्भ्रान फलक सूची  
सम्भ्रान फलक सूची 857.15 ⇨  
सम्भ्रान बेधना  
वेरया युक्ति करना 807 15  
सम्भ्रान माला  
सम्भ्रान माला 857 21 ⇨  
सम्भ्रान समारोह  
अभिनदन समारोह 854 11  
सम्भ्रान सूचक गुण  
आप 316.19  
सम्भ्रान स्थान  
सम्भ्रान स्थान 854.7 ⇨

सम्भ्रानित  
अभिवादित 1060 27  
पुरस्कृत 857 23  
सम्भ्रानित 854.19 ⇨  
सम्भ्रानी  
अभिमानी 858.10  
स्वाभिमानी 858 11  
सम्भ्रान्य  
पूजनीय 751 24  
सम्भ्रान्य 854 20 ⇨  
सम्भ्रार्जन  
परिष्करण 537.2  
मार्जन 218 8  
शस्त्र मार्जन 929 6  
सम्भ्राहित  
आश्चर्यित 379 8  
सम्भ्रित  
भाषित 958 57  
समभित 1026 8  
समरूप 967 20  
समाकार 978 4  
सहित 1006 2  
-सम्भ्रित  
सहित प्रत्यय सूची 1006.5  
सम्भ्रितता  
काव्य गुण सूची 453 4  
सम्भ्रिति  
समाकारता 978 1  
सादृश्य 609 3  
सम्भ्रिलन  
एकीभवन 698 4  
मिलन 369 1  
विलयन 21 26  
संगमन 21 21  
सयुजन 1010 9  
सयुति 1010 7  
समागमन 694 17  
सम्भ्रिश्रण 1008 12  
सहभोज 183.4  
सम्भ्रिलित  
एकत्रित 667 12  
एकीकृत 698.10  
केद्रित 971 21  
पद्यायती 892 12  
संराशित 667 16  
समागत 694 31  
समाविष्ट 1002.21  
साभूहिक 690 13  
सम्भ्रिलित करना  
आपवेश देना 1002 14  
सम्भ्रिलितता:  
एकतापूर्वक 698.12  
सम्भ्रिलितता  
सहकर्म 700 3  
सम्भ्रिश्र  
सम्भ्रिश्रित 1008.26  
सम्भ्रिश्रक  
सम्भ्रिश्रक 1008.27 ⇨

## सम्मिश्रण

सम्मिश्रण  
सम्मिश्रण 1008.12 ⇨  
सम्मिश्रण कर्ता  
सम्मिश्रक 1008.27  
सम्मिश्रित  
खोटा [खोटी] 98.13  
सम्मिश्रित 1008.26 ⇨  
सम्मिश्रितता  
सम्मिश्रितता 1008.13 ⇨  
सम्मिश्रित होना  
सम्मिश्रित होना 1008.19 ⇨  
सम्मिलन  
मुकुलन 120.1  
सकुचन 980.9  
सर्व ग्रहण 6.3  
सम्मीलित  
मुकुलित 120.8  
सम्मुख  
अभिमुख 1023.9  
उद्यत 491.15  
प्रतिरोधी 915.11  
प्रत्यक्ष दृष्ट 284.50  
समक्ष 1021.8  
सीधे 1098.32  
सम्मुखतः  
समक्षतः 1021.11  
सम्मुखता  
अभिमुखता 1023.1  
समक्षता 1021.1  
सम्मुख स्थिति मे  
आमने सामने 915.13  
सम्मुख होना  
समक्ष होना 1021.5  
सम्मुखी  
प्रतिद्वंद्वी 707.8  
सम्मुख्य  
आश्चर्यित 379.8  
आसक्त 365.5  
भ्रमित 342.10  
लुब्ध 359.30  
स्तंभन कृत 758.42  
सम्मुख्यन  
आलुभन 359.7  
सम्भूढ़  
चेतनाहीन 264.20  
भ्रमित 342.10  
स्तंभन कृत 758.42  
सम्मुख्यता  
सहज विश्वासशीलता 340.4  
सम्भूढ़ा  
भूढ़ा 264.5  
सम्मेलन  
एकत्रण 667.1  
एकीकरण 698.3  
गोष्ठी 694.4  
राजनीतिक दल 885.15  
संयोजन 693.4  
सभा 884.1

सम्मिश्रण 1008.12  
सम्मेलन होना  
समागम होना 694.25  
सम्मेलनी कवि  
मंच कवि 448.17  
सम्मोद  
आनंद 382.1  
प्रसन्नता 381.1  
सम्मोह  
आश्चर्यितता 379.2  
आसक्ति 365.1  
भ्रम 342.1  
माया 762.9  
मूछा 264.5  
विषय वासना रूपी अज्ञान 761.2  
सम्मोह 367.1 ⇨  
सम्मोहक  
प्रलोभक 359.32  
सम्मोहनपूर्ण 367.7  
सुदर 157.7  
सम्मोहकता  
कलापूर्णता 402.1  
प्रियता 369.1  
सम्मोहकता 367.3 ⇨  
सुदरता 157.1  
सम्मोहन  
आलोभन 359.8  
दिव्यास्त्र सूची 928.2  
सम्मोहन 367.2 ⇨  
सुदरता 157.1  
सम्मोहन [सम्मोहिनी]  
सुदर 157.7  
सम्मोहन करना  
सम्मोहन करना 367.5 ⇨  
सम्मोहन कर्ता  
सम्मोहन कर्ता 367.8 ⇨  
सम्मोहनपूर्ण  
सम्मोहनपूर्ण 367.7 ⇨  
सम्मोहन शक्ति  
सम्मोहकता 367.3  
सम्मोहनास्त्र  
वशीकरण यत्र 758.21  
सम्मोहित  
आश्चर्यित 379.8  
आसक्त 365.5  
भ्रमित 342.10  
लुब्ध 359.30  
वशीकृत 758.41  
सम्मोहित 367.6 ⇨  
सम्मोहित होना  
सम्मोहित होना 367.4 ⇨  
सम्मोहिनी  
जादू 474.2  
वशीकरण 758.22  
वशीकरण विद्या 758.20  
सम्मोहकता 367.3  
सुंदरता 157.1  
सुदर स्त्री 157.2

सम्मोहिनी विद्या  
वशीकरण विद्या 758.20  
सम्मोही [सम्मोहिनी]  
जादूई 474.36  
प्रलोभक 359.32  
धामक 342.11  
मायावी 762.17  
सम्मोहन कर्ता 367.8  
सम्मोहनपूर्ण 367.7  
सम्यक  
अवसरानुकूल 70.14  
पक्तिबद्ध 667.15  
संगत 438.6  
सम्मानपूर्वक 854.24  
स्पष्टतः 822.32  
सम्यक धितन  
ध्यानन 331.2  
सम्यक्-  
विधिपूर्वक 514.19  
संग सग 696.26  
सम्यक् कर्म  
अष्टांग मार्ग सूची 737.14  
सम्यक् चरित्र  
सच्चरित्रता 810.2  
सम्यक् वाक्-  
अष्टांग मार्ग सूची 737.14  
सम्यक् संकल्प  
अष्टांग मार्ग सूची 737.14  
सम्यक् ख्याधि  
अष्टांग मार्ग सूची 737.14  
सम्यक् स्मृति  
अष्टांग मार्ग सूची 737.14  
सम्यग् आजीव  
अष्टांग मार्ग सूची 737.14  
सम्यग् दृष्टि  
अष्टांग मार्ग सूची 737.14  
सम्यग् व्यायाम  
अष्टांग मार्ग सूची 737.14  
सम्योधी  
स्तोत्र 741.16  
सम्राज्ञी  
सम्राट् पत्नी 882.25  
स्वयं सम्राज्ञी 882.26  
सम्राट्  
शिव 767.1  
सम्राट् 882.24 ⇨  
स्वार्थभुव मनु 788.6  
सम्राट् [सम्राज्ञी]  
रजा [रानी] पक्काम (काष्ठ)सूची 882.10  
सम्राट् गवाक्ष  
सम्राट् गवाक्ष 608.16 ⇨  
सम्राट् पत्नी  
सम्राट् पत्नी 882.25 ⇨  
सम्हलना  
चेतना लाभ होना 263.9  
दीर्घ धारना 394.11  
संयम पालना 808.11

सम्हाल  
उत्थापन 1030.2  
संवरण 667.5  
सम्हाल कर  
सावधानत 497.6  
सम्हालन  
उत्थापन 1030.2  
सम्हालना  
आदान करना 637.3  
उद्ग्रहण करना 1062.26  
कर्तव्य पालन करना 895.8  
दायित्व पालन करना 895.7  
दायित्व लेना 895.6  
प्रबंधन करना 655.15  
प्रहार बघाना 920.13  
प्रहार सहना 920.12  
रक्षा करना 908.16  
व्यवस्थापित करना 893.8  
संवरण करना 667.11  
सम्हालने वाला  
व्यवस्थापक 893.14  
सम्हाला  
उत्थापन 1030.2  
सम्हाला [सम्हाली]  
उद्ग्रहीत 1062.34  
सयान  
यान आरूढ़ 1082.31  
रथ आरूढ़ 1082.32  
सयाना  
टोना कर्ता 759.2  
प्रेत साधक 759.13  
सयाना [सयानी]  
प्रोक्थी 301.25  
बुद्धिमान 301.21  
वयस्क 229.21  
सयानापान  
वयस्कता 229.13  
सयुक्ति  
उपायपूर्ण 517.11  
विचारपूर्ण 330.18  
सुझायपूर्ण 332.16  
सयुध्य  
समकोटीय 936.11  
सयोनि  
रिश्तेदार 715.6  
सहोदर 723.27  
सर  
उत्स्रोत 21.1  
जय 912.1  
जल 88.1  
जलाशय 18.2  
तालाब 18.10  
ताशः बड़ा पत्ता 479.18  
दल नायक 852.6  
प्राकृतिक जलाशय 18.5  
सर-  
महा अध्यक्ष 652.16

सर	सरकस झूला	स्वरलिपि 459.15	लीक 1063.16
लकी 228.38	सरकस झूला 1034.8 ⇨	सरगम अभ्यास	सरणी
सचल 1037.19	सरकस तंबू	सरगम अभ्यास 460.12 ⇨	क्यू 991.10
सरकंडा 597.11	सरकस तंबू 600.23 ⇨	सरगरोह	क्रम 991.1
सिर 140.1	सरकस स्थान	दल नायक 852.6	मार्ग 1063.1
सर (अँ)	सरकस स्थान 482.22 ⇨	नेता 346.2	व्यवस्था 893.5
पत्रारंभ संशोधन आदि सूची 444.41	सरका [सरकी]	सरगर्ग	सरतराश
सरअंजाम	चुपचाप पलायित 916.20	उत्साही 491.11	क्षीर कर्मी 224.2
अत 995.1	सरका [सरकी] 1084.50 ⇨	परिश्रमी 493.9	सरताज
कार्यान्वयन 505.5	सरकाऊ	स्फूर्त 491.13	दल नायक 852.6
परिणाम 510.1	सरकाने वाला 1084.52	सरगर्मी	पति 803.5
सरअंजाम देना	सरकाना	गतिविधि 502.2	प्रधान व्यक्ति 852.4
कार्यान्वयन करना 505.12	आगे भेजना 1054.11	प्रयत्न 489.1	बुरका नकाब 591.5
सरइया	सरकाने वाला	सचलता 1037.3	स्वामी 621.2
सरइया 683.11 ⇨	सरकाने वाला 1084.52 ⇨	सरगाही	सरतान
सरई	सरकार	उपवास आरंभ भोजन 748.14	कैसर 167.4
मूँज 568.1	कार्यालय 654.3	सरगुजस्त	सरता बरता
सरकंडा	जनपद 34.6	वृत्तात 449.14	उत्तराधिकार विभाजन 623.6
सरकंडा 597.11 ⇨	दरबार भवन 695.8	सरगुन	कृषि सहयोग 553.27
सरक	राज दरबार 889.14	त्रिगुणात्मक 762.12	बंटाईदारी 553.21
गतिशील 1042.11	राज्य 881.5	सरगुनिया	सरथ
रेग 1084.18	शासक मंडल 890.6	मूर्ति पूजक 751.8	रथ आरुढ़ 1082.32
सरकन 1084.22	शासन 890.1	सरघका [सरघदी]	सरद
सरकता [सरकती]	सरकार अध्यक्ष	डीठ 860.26	सरोद 461.84
सरकने वाला 1084.51	शासन अध्यक्ष 882.4	सरघरमा	सरदप्रस्तर
सरकते सरकते	सरकार दरबार	उत्सोत 21.1	हेड क्लर्क 652.37
शियिल गति से 1045.17	राज दरबार 889.14	सरजना	सरदर
सरकन	सरकारी	उत्पादन करना 546.7	औसतन 947.33
चुपचाप पलायन 916.2	राष्ट्रीयकृत 635.19	गढ़ना 545.22	सरदद
मद गमन 1045.3	शासकीय 890.20	सरजमीन	असुविधा 519.3
रेग 1084.18	सत्ता पक्षीय 885.28	देश 34.10	सरदल
सरकन 1084.22 ⇨	सरकारी अधिवक्ता	सरजीवन	घोखट पार्श्व काष्ठ 609.4
सरकना	सरकारी वकील 874.23	उर्वर (भूमि) 552.16	सरदार
धंसना 1031.19	सरकारी आय	मृतक सजीवन 250.5	घोर. सरदार 864.7
फिसलना 1084.37	राजरव 647.1	ग्नस्पतियुक्त 111.31	दल नायक 852.6
मद गमन करना 1045.8	सरकारीकरण	सरजैट	नेता 346.2
रेगना 1084.39	राष्ट्रीयकरण 635.3	साजैट 935.17	प्रधान व्यक्ति 852.4
सरकना 1084.43 ⇨	सरकारी कामगज	सरजोर	सारथपति 657.14
स्थान त्यागना 1036.10	दस्तावेजी कामगज 412.22	अवज्ञा कर्ता 348.7	सिख धर्मावलंबी 737.20
सरकने वाला	सरकारी भूमि	डीठ 860.26	सेनापति 935.1
सरकने वाला 1084.51 ⇨	सरकारी भूमि 553.6 ⇨	धूष्ट 734.20	सरदार [सरदारनी]
सरकदा	सरकारी वकील	सरजोरा	राज [रानी] पलाम (कस्त) सूची 882.10
दल नायक 852.6	सरकारी वकील 874.28 ⇨	सैर मास व्यजन 206.31	सरदारी
सरक लेना	सरकैया	सरट	दल नायकता 852.5
चुपचाप पलायन करना 916.11	सरकाने वाला 1084.52	गिरगिट 123.3	सरदी
सरकश	सरकोब	वायु 85.1	शीत काल 53.1
अवज्ञा कर्ता 348.7	तोपखाना 929.4	सरटिका	सरधा
डीठ 860.26	दड दाता 870.23	गोह 123.4	श्रद्धा 340.5
धूष्ट 734.20	सरकोबा	सरटेक्स (अँ)	सरनदीब
विद्रोही 903.18	भारी गदा 593.42	अधिकर 647.6	श्रीलंका 27.17
सरकशी	सरकोबी	सरण	सरना
धूष्टता 734.8	कान उमेठी 870.5	गमन 1091.1	जीवन निर्वाह होना 625.6
सरकस	सरगाना	घेराई 604.8	पर्याप्त होना 941.5
सरकस 473.8 ⇨	दल नायक 852.6	रेग 1084.18	सरकना 1084.43
सरकस (अँ)	नेता 346.2	सरणि	सरनाम
सरकस 473.8	मुखिया 852.7	क्यू 991.10	ख्यात 847.3
सरकस स्थान 482.22	सरगम	क्रम 991.1	सरनामा
	सादक 459.3	पंक्ति 691.4	प्रशंसा आलेख 841.5

## सरनेम (अं)

### सरनेम (अं)

वश नाम 315 7

### सरपंच

ग्राम मुखिया 892 6  
पचायत अध्यक्ष 892 5  
दिवाचक पंच 877 7

### सरपट

अश्वगति सूची 1084 24  
शीघ्रत 496 13  
समतल 986 9

### सरपट चलना

द्रुत गमन करना 1044 5

### सरपट घाल

चीकड़ी घाल 1084 25  
द्रुत गति 1044 2

### सरपत

मूँज 568.1  
सरकडा 597.11

### सरपरस्त

अभिपिता 720 12  
शरण दाता 910 13  
संरक्षक 908 26  
संरक्षणपूर्ण सहायक 700 27

### सरपरस्ती

अभिभावक कर्म 720 11  
संरक्षणपूर्ण सहायता 700 13

### सरपोश

ख्यानपोश 675.4  
ढक्कन 675 6

### सरफराज़

उन्नतमस्तक 858 12

### सरफरोश

आत्मबलिदानी 754 23  
जॉनिसार 826 14  
मृत्यु इच्छुक 249.28  
साहसी 394 13

### सरफरोशी

आत्मबलि 754 3  
जॉनिसारी 826 7

### सरफ्रेस मेल (अं)

स्थल डाक 444 25

### सरफ्रेसिंग

सरफ्रेसिंग 1080 13 ⇨

### सरफ्रेसिंग (अं)

सरफ्रेसिंग 1080 13

### सरबत

पूर्णांशिक 940 13  
सर्व 940 8

### सरबमूँह

मुहरबद 414 25

### सरबस

जमा पूँजी 628 8  
पूर्णांशिक 940 13  
सर्व 940.8

### सरबसार

शत प्रति शत 947 32

### सरबाज़

योद्धा 934 15

सैनिक 934 1

### सरबार

छोटी गठरी 674 4

### सरबाला

शहबाला 801 14

### सरबुलंद

प्रतिष्ठित 849.15

### सरबुलंदी

उच्च पदाधिकार 652 5  
ख्याति 847.1  
प्रधानता 852 3

### सरमद

अलमस्त 382 23

### सरमन आन द माउंट

सरमन आन द माउंट 739.13 ⇨

### सरमन आन द माउंट (अं)

सरमन आन द माउंट 739 13

### सरमस्त

अलमस्त 382 23  
उन्मत्त 354 22  
मदोन्मत्त 211.15

### सरमस्ती

अलमस्ती 382.7  
मद 211 1

### सरमा

गधर्व स्त्री सूची 778 8  
पौराणिक कुत्ता सूची 127 74  
राक्षस स्त्री सूची 784 23  
सरमा 784 28 ⇨  
सरमा 787 23 ⇨

### सरमाया

पूँजी 628 9

### सरमायादार

उद्योगपति 557 5  
पूँजीपति 628 10

### सरमायादारी

पूँजीवाद 884 18

### सरयू

भारत उपमहाद्वीप नदी सूची 20.7  
सरयू 20.21 ⇨

### सरल

अप्रतिष्ठित 850 5  
अवक्र 974 17

ईमानदार 815 7

दर्पहीन 859 8

पठनीय 400 14

बोध्य 518 17

सरल 817 8 ⇨

सहज 518 14

सह्य 872 18

सुनिवार्य 920 20

सुलझा [सुलझी] 574 15

### सरल [सरला]

सरल 817 8

### सरल (दे.)

व्यवहार अकुशल 829.9

### सरलक्षित

सरल 817 8

### सरलक्षितता

सरलता 817.2

### सरलता

अनलंकृतता 227.2  
दर्पहीनता 859 3  
बोध्यता 518.5  
सरलता 817.2 ⇨  
सुलझापन 574.6

### सरल द्रव

गंधा विरोजा 1012 10

### सरल वृक्ष

चीड़ 13.7

### सरलांग

गंधा विरोजा 1012 10

### सरव

सकोरा 683 10

### सरवक

सरइया 683 11

### सरबन

बौद्ध भिक्षु 790.27  
श्रवण कुमार 770 64

### सरवर

पदाधिकारी 652.4

### सरबरी

दल नायकता 852 5

### सरबाक

कटोरा 683 1  
सकोरा 683 10

### सरबु

आनंदप्रद 382.18

आई 88 27

जलयुक्त 88.23

तालाब 18.10

प्रेमपूर्ण 368.17

माधुर्यपूर्ण 157 9

रसपूर्ण 84 17

रसिक 837 18

रोधक 400 12

शोभायुक्त 226 11

सुंदर 157 7

स्वादयुक्त 275.15

### सरसई

सरसो 196.20

सरस्वती 20.24

### सरसला

मिठास 280 1

रसिकता 837 9

स्वादच्छता 275 10

### सरसन

पल्लवन 117 7

### सरसना

आनंदित होना 382 11

उत्साहित होना 491.5

उन्नत होना 534.8

पल्लव निकलना 117.15

पुष्ट होना 179.20

वनस्पतियुक्त होना 111.29

शोभान्वित होना 226 7

समुद्र होना 626.10

### सरसब्ज

बलिष्ठ 180 10  
वनस्पतियुक्त 111 31  
समुद्र 626.11

### सरसर

रेंग 1084 18

### सरसराना

रेगना 1084.39

### सरसराहट

खुजली 165.3  
सटसटाहट 297.38  
सरसराहट 297.40 ⇨

### सरसरी तौर पर

असावधानतः 498 8  
ऊपरी दृष्टिपाततः 284 58  
जल्दबाजी में 496 14  
दिखावटी तौर पर 825 7

### सरसरी नज़र

दृष्टिपात 284.15

### सरसरी नज़र डालना

ऊपरी दृष्टिपात करना 284 43

### सरसाई

अत्यधिकता 944 2  
रसिकता 837 9

वनस्पतियुक्तता 111 2

समुद्धि 626 1

### सरसाना

शोभान्वित करना 226 8

### सरसिका

जलाशय 18 2  
बाघड़ी 19 10

### सरसिज

कमल 14 4  
जलाशयज 18.18

### सरसिरुह

जलाशयज 18.18

### सरसी

बाघड़ी 19.10

### सरसीय

जलाशयी 18 17

### सरसीला [सरसीली]

आनंदप्रद 382.18

रसपूर्ण 84.17

रसिक 837 18

### सरसुति

सरस्वती 20.24

### सरसों

तिहलन सूची 196.14

सरसों 196.20 ⇨

### सरसों साग

साग सब्जी सूची 189.4

### सरसीही [सरसीही]

वनस्पतियुक्त 111.31

सुंदर 157.7

### सरस्वत

समुद्र 24.1

**रस्वत [सरस्वती]**

कला प्रेमी 400.17

**रस्वती**

कला देवी 397.2

गाय 127.10

जलबहुल भूमि 25.4

दुर्गा 776.7

ध्वनि 294.1

नदी 20.1

पीयाणिक नदी सूची 20.23

ब्रह्मा: पत्नी सूची 766.6

भाषा 421.1

भूमिगत जलधारा 21.16

महान स्त्री 839.4

राग रागिनी सूची 457.24

वाषा 299.1

विद्या 318.1

सरस्वती 20.24 ⇌

सरस्वती 775.8 ⇌

**सरस्वती देवी**

सरस्वती 775.8

**सरस्वती पूजा**

नाट्य आरंभ सूची 468.24

**सरस्वतीय**

सरस्वती विषयक 775.10

**सरस्वती विषयक**

सरस्वती विषयक 775.10 ⇌

**सरस्वती: वीणा**

सरस्वती वीणा 775.9 ⇌

**सरस्वत्य**

सरस्वती विषयक 775.10

**सरस्वतान**

जलयुक्त 88.23

**सरस्वतान [सरस्वती]**

आनंदप्रद 382.18

कला प्रेमी 400.17

भायुक्त 358.26

**सरहंग**

अवज्ञा कर्ता 348.7

पहलवान 486.2

सेनापति 935.1

सैनिक 934.1

**सरहंगी**

घुष्टता 734.8

**सरहंस**

सारस 126.74

**सरह**

शलभ 122.42

**सरहद**

सीमांत 100.1.19

सीमांत क्षेत्र 34.4

सीमांत प्रांत 27.24

**सरहदी सूबा**

सीमांत प्रांत 27.24

**सरहर**

मूँज 568.1

**सरौरा**

सरिया 597.17

**सराराग**

प्रवृत्तिशील 502.9

स्वर सामंजस्यपूर्ण 460.45

**सराना**

पर्याप्त होना 941.5

**सरापना**

शाप देना 713.6

**सरापा**

नखशिख वर्णन 449.7

**सराफ़**

आभूषण व्यापारी 566.11

बधक ग्राही 633.19

**सराफ़ख़ाना**

पेकी 662.5

बैक 631.1

**सराफ़ा**

सोना चाँदी बाज़ार 663.19

**सराफ़ी**

मुडी 409.9

**सराफ़ी पारघा**

बैक 631.10

हुंडी 633.16

**सराबौर**

अति आर्द्र 88.28

गहन प्रभावित 511.15

तल्लीन 331.14

रसपूर्ण 84.17

संसिक्त 1008.29

**सराय**

पाथशाला 1090.25

सराय 1090.33 ⇌

**सराय ख़ाना**

सराय 1090.33

**सराय घर**

सराय 1090.33

**सरायदार**

सराय वाला 1090.34

**सराय मालिक**

सराय वाला 1090.34

**सराय वाला**

सराय वाला 1090.34 ⇌

**सराय**

ढक्कन 675.6

**सरायगी**

जैन धर्मावलंबी 737.2

**सरासर**

अवश्यमेव 68.21

पूर्णांशतः 940.15

शत प्रति शत 947.32

**सरासरी**

अटकल 947.3

शीघ्रता 496.1

**सराहना**

प्ररोचना 468.23

प्रशंसा 841.1

प्रशंसा करना 841.24

**सरि**

नदी 20.1

निर्झर 21.8

पर्यंत 39.12

सादृश्य. उक्ति सूची 309.26

**सरिका**

मोती माला 228.33

**सरित**

धारावाही 447.26

नदी 20.1

**सरितावरा**

गंगा नदी 20.10

**सरिता**

जलधारा 21.15

धारा 21.14

नदी 20.1

**सरित्पति**

समुद्र 24.1

**सरित्सुरंग**

चीकी जलप्रीवा 24.11

नहर प्रणाली 23.5

**सरिया**

छड़ 597.13

सरकडा 597.11

सरिया 597.17 ⇌

**सरियाना**

क्रमबद्ध करना 991.19

संस्तरित करना 990.26

**सरिशत**

कलाकृति 397.20

**सरिस**

सादृश्य 309.20

सादृश्य उक्ति सूची 309.26

**सरी**

तलेया 18.8

**सरीखा [सरीखी]**

साया 317.32

सादृश्य 309.20

समकक्ष 851.5

समरूप 967.20

**सरीसृप**

रेगने वाला 1084.48

विष्णु 768.1

सरीसृप 123.1 ⇌

सरीसृप जीव 121.12

**सरीसृप जीव**

सरीसृप जीव 121.12 ⇌

**सरीसृपाः (प्र)**

सरीसृप जीव 121.12

**सरु**

तलवारः मूठ 924.11

लघु 980.20

**सरुधि**

सुरुधि संपन्न 400.16

**सरुप**

सादृश्य 309.20

साकार ईश्वर 764.10

सादृश्यः उक्ति सूची 309.26

**सरुपता**

ब्रह्मलीनता 755.6

सुंदरता 157.1

**सरुप ब्रह्म**

सगुण ब्रह्म 764.29

**सरुपा**

सरुपा 787.24 ⇌

**सरुपाकार -**

साकार 967.12

**सरे आम**

अगुप्तत 822.34

**सरे वरबार**

अगुप्तत 822.34

**सरे नौ**

आरभत 994.21

नवत 532.24

**सरे बाज़ार**

अगुप्तत 822.34

**सरे बाम**

अटारी 611.10

उच्चत 982.12

**सरे राह**

राह चलते 1098.27

**सरे राह मुलाक्रांत**

मार्ग परिचिततम् 704.12

**सरे राह मुलाक्राती**

मार्ग परिचित 704.26

**सरेश**

सरेश 1012.6 ⇌

**सरेश गोद**

लसदार गोद 1012.8

**सरेशदार**

धिपधिपा [धिपधिपी] 1012.13

**सरे शाम**

सायकाल मे 47.22

**सरेस**

श्रेण्य सूची 1012.4

**सरिया**

ढक्कन 675.6

सकोरा 683.10

**सरो**

नगर वृक्ष सूची 13.2

सरो 13.23 ⇌

**सरोकार**

प्रयोजन 508.1

व्यवहार 703.2

संदर्भ 437.3

संबध 715.1

**सरोकारी**

प्रयोजनार्थी 508.7

**सरोज**

कमल 14.4

जलज 88.24

जलाशयज 18.18

**सरोजिनी**

कमल सरोवर 18.3

**सरोजी**

ब्रह्मा 766.1

**सरोता**

सरोता 561.11

## सरोत्सव

### सरोत्सव

- बगला 126 54  
**सरोद**  
 सरोद 461 84 ⇨  
**सरोद वादक**  
 सरोद वादक 461 85 ⇨  
**सरोदिया**  
 सरोद वादक 461 85  
**सरोधा शास्त्र**  
 सरोधा शास्त्र 262 16 ⇨  
**सरोपा**  
 उपहार परिधान सूची 583 23  
**सरोवर**  
 जलाशय 18 2  
 झील 18 4  
 तरण ताल 482 23  
 तालाब 18.10  
**सरोवरज**  
 जलाशयज 18 18  
**सरोवरीय**  
 जलाशयी 18 17  
**सरोश**  
 ईश्वरीय संदेश 443 6  
 देवदूत 782 1  
**सरोष**  
 रुष्ट 374 17  
**सरो सामान**  
 आयुध 922 1  
 सामान 666 3  
**सरो**  
 ढक्कन 675 6  
 सकोरा 683 10  
**सरोट**  
 कपडा शिकन 975 8  
**सरोता**  
 सरोता 561 11 ⇨  
**सरोता: कटाई**  
 कुतराई 543 10  
**सर्कित (अँ)**  
 विद्युत सर्कित 102.5  
**सर्कित भंग**  
 शीट सर्कित 102.6  
**सर्कित हाउस**  
 सर्कित हाउस 1090 29 ⇨  
**सर्कित हाउस (अँ)**  
 सर्कित हाउस 1090 29  
**सर्किल (अँ)**  
 गोल चौराहा 1064.6  
 नगर खंड 619 5  
 वृत्त (चक्र) 972 1  
**सर्कुलर**  
 सर्कुलर 442 10 ⇨  
**सर्कुलर (अँ)**  
 सर्कुलर 442 10  
**सर्कुलेटिंग (अँ)**  
 गहरी 1083 27  
**सर्कुलेशन (अँ)**  
 चक्रावृत्ति 71 4

### सर्ग

- अध्याय 447 2  
 कलाकृति 397 20  
 जनन 243 1  
 जीव जगत 121 3  
 प्रयत्न 489 1  
 प्रवृत्ति 502 1  
 ब्रह्मांड 1 1  
 मूल प्रकृति 762 2  
 रचना कर्म 527 1  
 विलग्नन 1011 1  
 समूह 690 1  
 सृष्टि रचना 529 1  
 हारमोन 129 9  
**सर्गक**  
 उत्पादक 546 13  
**सर्ग कर्ता**  
 सृष्टि रचयेता 529 5  
**सर्गबंध**  
 महाकाव्य 451 12  
**सर्ग (अँ)**  
 तलाशी 336 13  
**सर्ज**  
 चीड़ 13 7  
 धूना 274 21  
 साल 13.26  
 हारमोन 129 9  
**सर्ज (प्र)**  
 चार्ज 101 7  
**सर्जक**  
 उत्पादक 546 13  
 गढ़ैया 545 5  
 जलावतारक 1080 44  
 रयेता 527 14  
 साहित्य लेखक 448 2  
**सर्जकता**  
 रचनाशीलता 527 3  
**सर्जन**  
 कला कर्म 397 15  
 गढ़ाई 545 4  
 प्रवाहन 1041 3  
 प्रेषण 1054.1  
 रचना कर्म 527 1  
**सर्जन (अँ)**  
 आपरेशन कर्ता 174.24  
 शल्य चिकित्सक 174.2  
**सर्जन (प्र)**  
 चार्जन 101 8  
**सर्जनशील**  
 रचनाशील 527 15  
**सर्जनशीलता**  
 रचनाशीलता 527 3  
**सर्जनहार**  
 ईश्वर 764 1  
**सर्जनहीन**  
 रचनाहीन 528.5  
**सर्जना**  
 कलाकृति 397.20

- रचना कर्म 527 1  
**सर्जनात्मक**  
 रचनात्मक 527 11  
**सर्जनात्मकता**  
 कलापूर्णता 402 1  
**सर्जनीय**  
 रचनीय 527.13  
**सर्ज मणि**  
 धूना 274 21  
**सर्जरी (अँ)**  
 आपरेशन 174 3  
 ग्रण शल्य 174 12  
 शल्य चिकित्सा 174 1  
**सर्जरी करना**  
 आपरेशन करना 174 21  
**सर्जि**  
 सज्जी 87 17  
**सर्जिकल टेप**  
 सर्जिकल टेप 174.15 ⇨  
**सर्जिकल टेप (अँ)**  
 सर्जिकल टेप 174 15  
**सर्जिका**  
 सज्जी 87 17  
**सर्जित**  
 जलावतरित 1080 43  
 रचित 527 12  
 विलयित 21 41  
 विसर्जित 1054 26  
 सर्भापित (सभा) 694 30  
**सर्जिद राज**  
 पीयूषिद 132 15  
**सर्जी**  
 सज्जी 87 17  
**सर्जोन (प्र)**  
 हारमोन 129.9  
**सर्टिफिकेट (अँ)**  
 प्रमाण पत्र 322.32  
 सत्यापन पत्र 327 6  
**सर्व**  
 अनुभूतिहीन 264 19  
 अनुष्ण 104.19  
 अप्रबल 488.14  
 आवेशहीन 372.12  
 ठंडाठार 197 42  
 शीत कालीन 53.14  
 शीतल 105 19  
 स्फूर्तिहीन 492.14  
**सर्वई**  
 पांडुर 289 53  
**सर्वेखाना**  
 कोल्ड स्टोरेज 670.19  
 बरफखाना 90.3  
**सर्व गर्म**  
 उन्नति अवनति 532.3  
**सर्व बाफ़ारी**  
 व्यापारिक मदी 664.13  
**सर्वबि**  
 बरफखाना 90.3

- सर्फिजरेटर** 671.12  
**सर्दी**  
 खॉसी जुकाम 163 13  
 चार ऋतु सूची 51 14  
 जुकाम 163.16  
 तुषार पात 90 9  
 शीत काल 53 1  
 बड़क्लेश सूची 761 19  
**सर्दी गरमी**  
 विपरीतता उपमान सूची 310.13  
**सर्प**  
 गति 1042 1  
 नाग 778 12  
 सर्प 123 10 ⇨  
**सर्पक**  
 रेगने वाला 1084 48  
**सर्प: कुंडली**  
 सर्प कुंडली 973 9 ⇨  
**सर्प: केचुली**  
 केचुली 134 17  
**सर्प कोटर**  
 सोप बिल 603 8  
**सर्प गति**  
 वक्र गति 1098 9  
**सर्प धर्म**  
 सर्प धर्म 582.10 ⇨  
**सर्प छत्र**  
 कुकुरमुत्ता 189 13  
**सर्पण**  
 घुपघाप पलायन 916 2  
 पैठ 1094 14  
 फिसलन 1084 15  
 रेग 1084 18  
 विघरण 1085 1  
 व्याप्ति 981.5  
 सरकन 1084.22  
**सर्पण कर्ता**  
 रेंगने वाला 1084 48  
**सर्पणी**  
 मादा सर्प 123 11  
**सर्प दंत दंश**  
 सर्प दंश 918 12  
**सर्प दंश**  
 सर्प दंश 918.12 ⇨  
**सर्प दर्शन**  
 भ्रम दर्शन 342.3  
**सर्प दष्ट**  
 सर्प दंश 918 12  
**सर्प: दुग्ध पान**  
 नाग पंचमी 57 18  
**सर्प फण**  
 सर्प फण 140.3 ⇨  
**सर्प फेन**  
 अफ़ीम 212.2  
**सर्प मणि**  
 सर्प मणि 96.20 ⇨  
**सर्प: माता**  
 कट्टु 787 11

सर्प मीन  
 बाम 125 9  
 सर्प यज्ञ  
 यज्ञ सूची 753.2  
 सर्पराज  
 नागराज 778 17  
 सर्पराज्ञी  
 मनसा 774 62  
 सर्प शीर्ष  
 सर्प फण 140 3  
 सर्प सस्त्री  
 जनमेजय 771 55  
 सर्प सूची  
 सर्प सूची 123 16 ⇨  
 सर्पहा  
 गरुड गिद्ध 126 27  
 सर्पा  
 मादा सर्प 123 11  
 सर्पाकार  
 सर्पिल 974 19  
 सर्पाकारता  
 सर्पिलता 974 5  
 सर्पारि  
 गरुड 777 15  
 नेवला 127.69  
 मोर 126.68  
 सर्पावास  
 सोंप बिल 603 8  
 सर्पिणी  
 मादा सर्प 123.11  
 सर्पिल  
 सर्पिल 974.19 ⇨  
 सर्पिलता  
 सर्पिलता 974.5 ⇨  
 सर्पिल मोक्ष  
 सर्पिल मोक्ष 974 13 ⇨  
 सर्पी  
 प्रसारशील 979.18  
 रेगने वाला 1084 48  
 सरकाने वाला 1084.52  
 सर्पेन्द्र  
 नागराज 778.17  
 सर्पेश्वर  
 वासुकि नाग 778.21  
 सर्पेष्ट  
 चंदन 274.20  
 सर्पे  
 खपा [खपी] 644.25  
 व्यथित 644.18  
 सर्पेबोर्ड  
 सर्पेबोर्ड 483.23 ⇨  
 सर्पेबोर्ड (अं)  
 सर्पेबोर्ड 483.23  
 सर्पे होना  
 खपना 644.16  
 सर्पेग  
 सर्पेग 477.16 ⇨  
 सर्पेग 483.22 ⇨

सर्पेग (अं)  
 सर्पेग 477 18  
 सर्पेग 483 22  
 सर्पेग बोर्ड  
 सर्पेग बोर्ड 588.41 ⇨  
 सर्पेग बोर्ड (अं)  
 सर्पेग बोर्ड 588 41  
 सर्पेया  
 पर्यटन 1090 6  
 सर्पेया  
 अक्ष 1077.11  
 अक्ष दड 1077 12  
 सर्पेयाटा  
 फर्टाटा 1084 13  
 शीघ्रता 496 1  
 सरसराहट 297 40  
 सर्पेयाटे से  
 शीघ्रत 496 13  
 सर्पेयाक  
 रत्न व्यापारी 566 13  
 साहूकार 633 4  
 सर्पेयाका  
 पेड़ी 662 5  
 रत्नहाट 566.12  
 सोना चौंदी बाज़ार 663 19  
 सर्पेयाकी  
 आभूषण व्यापार 566 10  
 साहूकारा 633 3  
 सर्पेयाहर  
 शिव 767.1  
 सर्पेया  
 पूर्णांशिक 940.13  
 विश्व स्तरीय 35 9  
 सरो 13.23  
 सर्व 940.8 ⇨  
 सामान्य 311 3  
 सामूहिक 690.13  
 सर्वेन्द्र  
 लवे क्रद वाला 154 13  
 सर्वेकर  
 शिव 767 1  
 सर्वेकामद  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767 1  
 सर्वेकाल  
 त्रिकाल 36.9  
 सर्वेकालीन  
 ऋतु कालातीत 51 18  
 त्रिकालीन 36 17  
 सर्वेकालीनता  
 शाश्वतता 37.1  
 सर्वेग  
 जल 88.1  
 सर्वेव्यापक 981 13  
 सर्वेगति  
 सर्वेव्यापक 981 13  
 सर्वेगानी  
 शिव 767 1

सर्वेव्यापक 981.13  
 सर्वेगुण संपन्न  
 सगुण ईश्वर 764 11  
 सर्वेगुण संपन्न 313.17 ⇨  
 सर्वेगुण संपन्नता  
 सर्वेगुण संपन्नता 313.8 ⇨  
 सर्वेगुणी  
 सर्वेगुण संपन्न 313 17  
 सर्वेगोचर  
 शिव 767 1  
 सर्वेग्रहण  
 सर्वेग्रहण 6 3 ⇨  
 सर्वेग्रहण  
 सर्वेग्रहण 6.3  
 सर्वेग्रहाहिता  
 अधिग्रहणशीलता 635.2  
 सर्वेग्रही  
 अधिग्रहणशील 635 18  
 सर्वेघारी  
 सर्वेव्यापक 981 13  
 सर्वेजन  
 पंचायत सदस्य 892.3  
 समाज 688 1  
 साधारण जन 728.12  
 सर्वेजनता  
 सामूहिकता 690 2  
 सर्वेजनीन  
 अगुद 822 28  
 पंचायती 892 12  
 समाजीय 688 14  
 सर्वे संज्ञात 441 21  
 सामान्य 311 3  
 सामूहिक 690 13  
 सर्वेजनीय  
 नता विषयक 883 9  
 समाजीय 688.14  
 सहकारी (संपत्ति) 621 28  
 सामूहिक 690.13  
 सर्वेज्ञ  
 अहंत 744 40  
 ईश्वर 764 1  
 अहंत बुद्ध 793.1  
 तीर्थंकर 792.1  
 पूर्णविद्य 318.5  
 विष्णु 768.1  
 शिव 767 1  
 सर्वेज्ञ 305.37 ⇨  
 सर्वेज्ञता  
 सर्वेज्ञता 305.18 ⇨  
 सर्वेज्ञा  
 दुर्गा 776.7  
 सर्वेज्ञात  
 अगुद 822.28  
 ख्यात 847.3  
 सर्वे संज्ञात 441.21  
 सर्वेज्ञातता  
 सर्वे संज्ञातता 441.9

सर्वेज्ञात होना  
 सर्वे संज्ञात होना 441.14  
 सर्वेज्ञेन्द्र  
 अनेक विषय विद्वान 319.9  
 सर्वेता:  
 क्षमतापूर्वक 487.33  
 चतुर्दिशतः 29 36  
 पूर्णांशतः 940 15  
 विविधतः 310 11  
 शत प्रति शत 947.32  
 सर्वेता  
 सर्वेता 940.1 ⇨  
 सामान्यता 311 1  
 सर्वेताभद्र  
 कल्याणकारी 710.21  
 सर्वेताभद्र घक्र 407 19  
 सर्वेताभद्रक  
 नीम 13.12  
 सर्वेताभद्र घक्र  
 सर्वेताभद्र घक्र 407 19 ⇨  
 सर्वेताभद्र वन  
 देवता उद्यान सूची 772.13  
 सर्वेताभद्रासन  
 योग आसन सूची 756.19  
 सर्वेताभाव  
 सर्वेव्यापकता 981 4  
 सर्वेताभावेन  
 क्षमतापूर्वक 487 33  
 सर्वेतामुख  
 अग्नि 106.1  
 असीम 1001.34  
 आकाश 2 1  
 ईश्वर 764.1  
 पूर्णांशिक 940 13  
 ब्रह्मा 766.1  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767.1  
 सर्वेतामुखी 29 29  
 सर्वेतामुख्यता  
 बहुपार्थीयता 997.2  
 सर्वेतामुख्यता 29.8 ⇨  
 सर्वेतामुखी  
 सर्वेतामुखी 29.29 ⇨  
 सर्वेत्वागी  
 सर्वेस्व दानी 641.30  
 सर्वेत्र  
 चतुर्दिशतः 29.36  
 सर्वेत्रग  
 वायु 85 1  
 सर्वेव्यापक 981.13  
 सर्वेत्रता  
 सर्वेव्यापकता 981.4  
 सर्वेत्वा  
 अत्यधिक 944.7  
 अवरयमेव 68.21  
 पूर्णांशतः 940.15  
 विविधतः 310.11  
 शत प्रति शत 947.32

## सर्वदंडनायक

हमेशा 1049.17

### सर्वदंडनायक

महा अध्याक्ष 652.18

### सर्वदर्शी

ईश्वर 764.1

गीतम बुद्ध 793.1

तीर्थकर 792.1

विष्णु 768.1

सर्वदर्शी 284.52 ⇌

### सर्वदा

हमेशा 1049.17

### सर्वदाता

सर्वस्व दानी 641.30

### सर्वदानी

सर्वस्व दानी 641.30

### सर्वदिग्भिजय

विश्वजय 912.6

### सर्वदिशता

सर्वतोमुखता 29.8

### सर्वदृष्टा

सर्वदर्शी 284.52

### सर्वदेवमय

शिव 767.1

### सर्वदेशीय

अखिल देश स्तरीय 35.7

विश्व स्तरीय 35.9

### सर्वधर्म राज्य

इहलोक तंत्र 881.15

### सर्वधर्म समभाव

सर्वधर्म समभाव 884.7 ⇌

### सर्वनष्ट

नष्ट 531.7

### सर्वनाम

सर्वनाम 425.16 ⇌

### सर्वनाम सूची

सर्वनाम सूची 425.17 ⇌

### सर्वनाश

नाश 531.1

### सर्वनाशी

नाशक 531.8

### सर्वनियंता

ईश्वर 764.1

### सर्व प्रथम

पहले पहल 72.7

प्रथमतः 505.38

प्रथम स्थानीय 707.11

### सर्व प्रथमतः

पहले पहल 72.7

### सर्वप्रद

इच्छा पूरक 361.14

### सर्वप्रिय

लोकप्रिय 849.22

### सर्वप्रियता

लोकप्रियता 849.9

### सर्वभक्षी

अग्नि 106.1

सर्वभक्षी 205.10 ⇌

### सर्व भाव

पूर्ण आत्मा 763.2

प्रभु सत्ता 899.2

### सर्वभूत

जीव जगत 121.3

### सर्वभूतमहेश्वर

शिव 767.1

### सर्वभोगी

सर्वभक्षी 205.10

### सर्वभोग्य

जनोपयोगी 524.19

### सर्वभंगला

दुर्गा 776.7

देवी. शक्ति सूची 774.50

लक्ष्मी 775.1

### सर्वमान्य

निर्विवाद 324.24

लोकमान्य 849.21

### सर्वमान्यता

निर्विवादता 324.2

लोकमान्यता 849.8

### सर्वमिदं

ब्रह्मांड 1.1

### सर्वमेध यज्ञ

यज्ञ सूची 753.2

### सर्वरी

हलदी 281.38

### सर्वरूप

कामरूपी 532.21

### सर्वरूपी

अभिनेता 464.5

कामरूपी 532.21

### सर्वलोक पितामह

ब्रह्मा 766.1

### सर्वलोक महेश्वर

विष्णु 768.1

### सर्वलोकेश

विष्णु 768.1

### सर्वलोकेश्वर

ब्रह्मा 766.1

शिव 767.1

### सर्वविदता

सर्वज्ञता 305.18

### सर्व विदित

सर्व संज्ञात 441.21

### सर्व विदितता

सर्व संज्ञातता 441.9

### सर्ववेता

सर्वज्ञ 305.37

### सर्व वेद

संपूर्ण वेद 740.24

### सर्व वेदसी

सर्वस्व दानी 641.30

### सर्ववेशी

अभिनेता 464.5

नट 473.10

सर्व वैनाशिक  
वीद्य धर्मावलंबी 737.7

### सर्वव्यापक

सर्वव्यापक 981.13 ⇌

### सर्वव्यापकता

सर्वव्यापकता 981.4 ⇌

### सर्वव्यापी

ईश्वर 764.1

सर्वव्यापक 981.13

### सर्वशः

अवश्यमेव 68.21

पूर्णाशतः 940.15

विविधतः 310.11

शत प्रति शत 947.32

### सर्वशक्तिमान

सर्वशक्तिशाली 487.22

### सर्वशक्तिशाली

सर्वशक्तिशाली 487.22 ⇌

### सर्व श्रेष्ठ

उत्तम 313.13

### सर्व संज्ञात

सर्व संज्ञात 441.21 ⇌

### सर्व संज्ञातता

सर्व संज्ञातता 441.9 ⇌

### सर्व संज्ञात होना

सर्व संज्ञात होना 441.14 ⇌

### सर्व संपन्न

समृद्ध 626.11

### सर्वसंहार

काल 36.1

प्रत्यय 530.1

### सर्वसमता

पक्षपातहीनता 887.2

समकक्षता 851.1

### सर्वसम्मत

सर्वसहमत 337.21

### सर्वसम्मतता

सर्वसहमततः 337.27

### सर्व सम्मति

सर्व सहमति 337.4

### सर्वसहमत

सर्वसहमत 337.21 ⇌

### सर्वसहमततः

सर्वसहमततः 337.27 ⇌

### सर्व सहमति

निर्विवादता 324.2

सर्व सहमति 337.4 ⇌

### सर्वसहमति से

सर्वसहमततः 337.27

### सर्वसाक्षी

सर्वज्ञ 305.37

सर्वदर्शी 284.52

सर्व साधारण जन 728.12

सामान्य 311.3

### सर्वसिद्धि

इच्छा पूर्ति 361.1

प्रमाण 327.1

### सर्वसिद्धिदा

नवशक्ति सूची 776.19

### सर्व सुजीविता (प्र)

नागर सुजीविता 170.4

### सर्व सुलभ

सुलभ 943.10

### सर्वस्व

जमा पूंजी 628.8

पूर्णांशिक 940.13

सकल संपत्ति 624.2

### सर्वस्व दानी

सर्वस्व दानी 641.30 ⇌

### सर्वस्वहर

शिव 767.1

### सर्वहर

काल 36.1

### सर्वहारा

कंगाल 627.21

सर्वहारा 627.23 ⇌

### सर्वहारा वर्ग

सर्वहारा वर्ग 688.13 ⇌

### सर्वहारी

काल 36.1

यमराज 256.1

### सर्वांग

पूर्णांशिक 940.13

संपूर्ण वेद 740.24

सर्वांग 153.14 ⇌

### सर्वांगतः

पूर्णांशतः 940.15

### सर्वांगता

सर्वता 940.1

सर्वांगता 153.1 ⇌

### सर्वांग संपूर्ण

परिपूर्ण 313.14

प्रशंसनीय 841.30

सर्वांग 153.14

### सर्वांग संपूर्णता

परिपूर्णता 313.5

सर्वगुण संपन्नता 313.8

सर्वांगता 153.1

सर्वांग संपूर्णता प्रेम

उत्कृष्टता प्रेम 400.6

### सर्वांगीण

सर्वतोमुखी 29.29

### सर्वांगीणता

सर्वतोमुखता 29.8

### सर्वांगीय

सर्वतोमुखी 29.29

सर्वांग 153.14

### सर्वांगीयता

पूर्णांशता 940.5

सर्वगुण संपन्नता 313.8

सर्वतोमुखता 29.8

सर्वांगता 153.1

### सर्वांतक

नाशक 531.8

शिव 767.1

### सर्वांतरस्थ

आंतरिकतम 999.13



सर्वान्तरस्थायी  
 आंतरिकतम 999 13  
 आत्मा 763 1  
 सर्वातर्थायी  
 ईश्वर 764 1  
 सर्वांश  
 पूर्णांशिक 940.13  
 सर्वांशिक  
 पूर्णांशिक 940.13  
 सर्वांशिकता  
 पूर्णांशिता 940 5  
 सर्वांशिय  
 पारा 94 9  
 सर्वात्मवाद  
 अद्वैतवाद 760 8  
 सर्वात्मा  
 गौतम बुद्ध 793 1  
 तीर्थंकर 792 1  
 सर्वादि  
 शिव 767 1  
 सर्वाधिक  
 अधिकतम 944.6  
 उत्तम 313 13  
 सर्वाधिकारी  
 निरीक्षक 284 17  
 महा अध्यक्ष 652 16  
 शासक 890 5  
 सर्वांश्व सत्ताधारी 899 5  
 सर्वाध्यक्ष  
 महा अध्यक्ष 652 16  
 सर्वाभूति  
 बोधिसत्व सूची 793 16  
 सर्वार्थ कुशल  
 सर्वगुण संपन्न 313 17  
 सर्वार्थसिद्ध  
 गौतम बुद्ध 793.1  
 सर्वांगी  
 सर्वमक्षी 205 10  
 सर्वास्तित्वाद्  
 बौद्ध संप्रदाय सूची 737 15  
 सर्वाहारी  
 सर्वमक्षी 205.10  
 सर्विस (अं)  
 परोस 183.19  
 बरतन सैट सूची 680 19  
 समन प्रस्तुति 875.18  
 सेवा 651.1  
 सर्विस स्पून (अं)  
 डिनर सैट सूची 680.21  
 सर्विसिंग (अं)  
 रखरखाव 538.4  
 सर्विय  
 जनता विषयक 883 9  
 सामूहिक 890.13  
 सर्व (अं)  
 क्षेत्र मापन 959.33  
 भूसर्वेक्षण 599.16  
 सर्वेक्षण 284.23

सर्वेअर (अं)  
 सर्वेक्षक 284.24  
 सर्वेक्षक  
 सर्वेक्षक 284.24 ⇨  
 सर्वेक्षण  
 भूसर्वेक्षण 599.16  
 सर्वेक्षण 284.23 ⇨  
 सर्वेश  
 चक्रवर्ती सम्राट 882 27  
 महा अध्यक्ष 652 16  
 सम्राट 882 24  
 सर्वांश्व सत्ताधारी 899 5  
 सर्वेश्वर  
 ईश्वर 764 1  
 चक्रवर्ती सम्राट 882 27  
 महा अध्यक्ष 652 16  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767 1  
 सम्राट 882 24  
 सर्वांश्व सत्ताधारी 899 5  
 सर्वेसर्वा  
 एक स्वामी 621 4  
 महा अध्यक्ष 652 16  
 सर्वेसर्वा 652 12 ⇨  
 सर्वेट्स क्वार्टर (अं)  
 भूत्य आवास 602 16  
 सर्वांश्व  
 उच्चतम 982 8  
 उत्तम 313 13  
 प्रधान 852 10  
 महा अध्यक्ष 652 16  
 सर्वांश्व सत्ताधारी 899 5  
 सर्वांश्व अधिकारी  
 महा अध्यक्ष 652 16  
 सर्वांश्व जीव  
 मानव 128.1  
 सर्वांश्वता  
 उत्कर्ष सीमा 1001 6  
 प्रथम स्थान 707 4  
 सर्वांश्व न्यायालय  
 उच्चतम न्यायालय 874 10  
 सर्वांश्व बौद्ध अधिकारी  
 अर्हत 744.40  
 सर्वांश्व सत्ता  
 सर्वांश्व सत्ता 899.4 ⇨  
 सर्वांश्व सत्ताधारी  
 सर्वांश्व सत्ताधारी 899 5 ⇨  
 सर्वांश्व सत्ताधीश  
 सर्वांश्व सत्ताधारी 899 5  
 सर्वांश्व समिति  
 महासमिति 892 24  
 सर्वांश्व समिति 892.27 ⇨  
 सर्वांश्वस्थ  
 उच्चतम 982.8  
 सर्वांकूट  
 उत्तम 313.13  
 सर्वांकूटता  
 उत्कर्ष सीमा 1001.6

उत्तमतमता 313 3  
 सर्वांतम  
 अनुपम 312 17  
 उत्तम 313.13  
 सर्वगुण संपन्न 313 17  
 सर्वांतमता  
 उत्तमतमता 313 3  
 सर्वांपरि  
 अधिकतम 944 6  
 उच्चतम 982 8  
 उत्तम 313 13  
 प्रधान 852 10  
 महा अध्यक्ष 652.16  
 सर्वांश्व सत्ताधारी 899 5  
 सर्षप  
 सरसो 196 20  
 सल  
 तह 975 15  
 शिकन 975 7  
 सलई  
 गंधा बिरोजा 1012 10  
 चीड़ 13 7  
 सलना  
 छिदना 271 19  
 बरमा 559 49  
 सलमा  
 सलमा 571 49 ⇨  
 सलमा सितारा काम  
 सलमा सितारा काम 577 18 ⇨  
 सलय  
 लयपूर्ण 458 58  
 सलवट  
 कपड़ा शिकन 975 8  
 शिकन 975 7  
 सलवटदार  
 शिकनदार 975 28  
 सलवट निकालना  
 इस्तिरी करना 220 39  
 सलवटी  
 शिकनदार 975 28  
 सलवात  
 ईश्वर दया 834 2  
 सलवार  
 सलवार 586 6 ⇨  
 सलवार कमीज़  
 जोड़ा सूची 583 17  
 सलसलाना  
 गुदगुदी करना 385.10  
 रेंगना 1084 39  
 सलसलाहट  
 कुलबुलाहट 392 2  
 खुजली 185 3  
 गुदगुदी 385.4  
 फिरफिराहट 104.2  
 रेंग 1084.18  
 सरसरहाट 297.40  
 सलहण  
 सलहण 724.38 ⇨

सलाइयी (बहु)  
 स्वेटर सलाई 562.19  
 सलाई  
 कुरेदनी 559 8  
 माधिस 107 7  
 शलाका - 597.16  
 साही रोम 135 5  
 स्वेटर सलाई 562.19  
 सलाक  
 बाण 926 16  
 सलाख  
 शलाका 597 16  
 सरिया 597 17  
 सीख 560 8  
 सलात  
 नमाज़ 751 10  
 सलाम  
 सलाम 1060.14 ⇨  
 सलामी मुद्रा 1060 18  
 सलामत  
 अर्भजित 539 13  
 अविभक्त 698 11  
 रक्षित 908 19  
 सुरक्षित 908 27  
 सलामती  
 कल्याण 710 2  
 कुशल क्षेम 710 6  
 रक्षा 908 1  
 सुरक्षा 908 4  
 स्वस्थता 161 3  
 सलामती का जाप  
 जामे सेहत 209 24  
 सलामती चाहना  
 कल्याण कामना करना 710 15  
 विदा करना 1058 3  
 सलामती सै  
 सुरक्षितता 908 29  
 सलाम पथाम  
 विवाह प्रस्ताव 799 29  
 सलाम बणा लाना  
 सादर उपस्थित होना 1021 7  
 सलामी  
 अभिनदन समारोह 854 11  
 आरंभ कर्ता: 521 7  
 उपहार 640 2  
 तोप सलामी 1060 19  
 प्रथम स्थानीय 707 11  
 सलामी मुद्रा 1060 18  
 स्वागत समारोह 1059.2  
 सलामी उफ़ान  
 सलामी उफ़ान 1081.17 ⇨  
 सलामी परेड  
 सलामी परेड 1083.10 ⇨  
 सलामी मुद्रा  
 सलामी मुद्रा 1060.18 ⇨  
 सलामी शो  
 प्रीमियर शो 468.6

## सलाह

<b>सलाह</b>	
उपदेश 430 9	
निदेश 347 2	
परामर्श 332 1	
प्रस्ताव 329 1	
संधि 906 5	
सीख 332 6	
सुझाव 332.5	
<b>सलाहकार</b>	
परामर्शक 332 14	
<b>सलाह मराधिरा</b>	
परामर्श 332 1	
<b>सलाहियत</b>	
विनम्रता 733 8	
<b>सलिंग</b>	
सदृश्य 309 20	
<b>सलिल</b>	
जल 88 1	
वर्षा 54 5	
<b>सलिल क्रिया</b>	
भूतक स्नान 253 3	
<b>सलिलज</b>	
कमल 14 4	
जलज 88 24	
<b>सलिलद</b>	
जलद 88 25	
मेघ 55 1	
<b>सलिलयोनि</b>	
ब्रह्मा 766 1	
<b>सलिस्कार</b>	
जलराशि 18.1	
जलाशय 18 2	
समुद्र 24 1	
<b>सलिलाधिप</b>	
वरुण 773 43	
<b>सलिलाशय</b>	
जलाशय 18 2	
तालाब 18 10	
<b>सलिलाहारी</b>	
जलाहारी 204 8	
<b>सलिलेद्र</b>	
वरुण 773 43	
<b>सलिलेश</b>	
वरुण 773 43	
<b>सलिलेशय</b>	
नारायण (नर) 764 19	
विष्णु 768 1	
<b>सलिलोद्भव</b>	
जलज 88.24	
<b>सलीक्रा</b>	
कार्य विधि 514 1	
विदेक 301 7	
शिष्टता 733 7	
सम्भीकरण 733 1	
<b>सलीक्रदार</b>	
शिष्ट 733 18.	
सभ्य 733.13	

<b>सलीक्रे से</b>	
शिष्टत 733 22	
<b>सलीपर</b>	
स्त्रीपर 597.12	
<b>सलीब</b>	
कूस 407 11	
कूस यत्र 871 10	
सूली यत्र 871 16	
<b>सलीबधारी</b>	
ईसा 791.8	
<b>सलीबी</b>	
ईसा 791 8	
ईसाई धर्मावलंबी 736.17	
<b>सलीम</b>	
रक्षित 908 19	
सुरक्षित 908 27	
<b>सलीमशाही</b>	
सलीमशाही जूता 588 24	
<b>सलीमशाही जूता</b>	
सलीमशाही जूता 588 24 ⇨	
<b>सलील</b>	
क्रीडाप्रिय 469.16	
<b>सलीस</b>	
बोध्य 518 17	
<b>सलुक</b>	
सीमनस्य 705 18	
<b>सलूनो</b>	
रक्षा बधन 57.20	
<b>सलेट</b>	
सलेट 415.5 ⇨	
<b>सलेट पत्थर</b>	
सलेट पत्थर 99 11 ⇨	
<b>सलेट पैसिल</b>	
सलेट पैसिल 416 9 ⇨	
<b>सलेटी</b>	
सलेट पैसिल 416 9	
हलका काला 289 39	
<b>सलैया</b>	
घीड़ 13 7	
<b>सलैला [सलैली]</b>	
फिसलन युक्त 1084 47	
<b>सलोना [सलोनी]</b>	
नमकीन 279 10	
लावण्ययुक्त 157 10	
<b>सलोनापन</b>	
नमकीनपन 279 1	
रूप लावण्य 157 5	
<b>सलोनी</b>	
सुदर स्त्री 157.2	
<b>सत्सनत</b>	
राज्य 881 5	
शासन 890 1	
<b>सत्सनती</b>	
राज्यीय 881.32	
<b>सत्कर (अँ)</b>	
गंधक 92 8	
<b>सत्सकी</b>	
घीड़ 13 7	

<b>सत्सू</b>	
घमका तसमा 571 31	
<b>सत्सूअला</b>	
सुखान अत्लाह 741.34	
<b>सब</b>	
पुष्प रस 84 6	
<b>सबन</b>	
पिंडदान 253 24	
<b>सबन कर्म</b>	
यजन 753.3	
<b>सबनु</b>	
शरीरी 139 13	
<b>सबया</b>	
बाल सखी 705.13	
<b>सवर्ग</b>	
जातियुक्त 730 17	
मित्रयुक्त 705.28	
<b>सवर्गीय</b>	
समकोटीय 936 11	
<b>सवर्ण</b>	
उच्च वर्ण 731 6	
उच्च वर्णीय 731.32	
<b>सवर्णज</b>	
उच्च वर्णीय 731 32	
<b>सवर्णा</b>	
छाया 774.36	
<b>सवलय</b>	
वलयित 975.29	
<b>सवांछा</b>	
इच्छापूर्ण 359 18	
<b>सवा</b>	
अधिक 944 5	
सवाया 949 32	
<b>सवाई</b>	
अधिक 944 5	
उत्तमतर 313.12	
रज [रबी] पक्काम (क्कच) सूखी 882 10	
सवाया 949 32	
<b>सवाक फिल्म</b>	
सवाक फिल्म 472.3 ⇨	
<b>सवाब</b>	
नैतिकतापूर्ण 815.5	
पुण्य 814.1	
पुण्य फल 260 11	
प्रतिफल 510.3	
<b>सवाया</b>	
अधिक 944.5	
सवाया 949.32 ⇨	
<b>सवाया [सवाई]</b>	
उत्तमतर 313.12	
प्रबल 487 24	
सवाया 949.32	
<b>सवार</b>	
अश्व सैनिक 934.8	
आरूढ़ 1082.29	
आरोही 1082.2	
पशु आरूढ़ 1082 30	
यान आरूढ़ 1082.31	

<b>सवार होना</b>	
आरोहित होना 1082.25	
<b>सवारी</b>	
अश्वारोहण 1082.5	
आरोहण 1082 1	
आरोही 1082.2	
यान 1070.1	
यान आरोहण 1082 16	
यानारोही 1082 17	
राजा शोभायात्रा 1088 12	
शोभा यात्रा 1088 11	
सवारी पशु 127 4	
<b>सवारी करना</b>	
आरोहित होना 1082 25	
<b>सवारी गैठाई</b>	
आरोहण 1082.1	
<b>सवारी गौठना</b>	
आरोहित होना 1082 25	
<b>सवारी गाड़ी</b>	
सवारी यान 1071.17	
<b>सवारी घोड़ा</b>	
सवारी घोड़ा 127.37 ⇨	
<b>सवारी जहाज़</b>	
यात्री पोत 1072 41	
<b>सवारी डिब्बा</b>	
रेलगाड़ी डिब्बा 1076 4	
<b>सवारी पशु</b>	
सवारी पशु 127.4 ⇨	
<b>सवारी यान</b>	
सवारी यान 1071.17 ⇨	
<b>सवारी से उत्तारना</b>	
उत्तारण करना 1059.25	
<b>सवाल</b>	
अभियोग 875 3	
जिज्ञासा 305 22	
प्रश्न 333.1	
प्रार्थना 350.4	
याचना 642.1	
याचिका 875.15	
वाद विषय 437.8	
समस्या 333 11	
<b>सवाल उठाना</b>	
समस्या होना 333.20	
<b>सवाल करना</b>	
बुझौल करना 333.21	
<b>सवाल जवाब</b>	
जिरह 324.7	
जिरह 876.7	
प्रश्न उत्तर 333.9	
<b>सवालिया</b>	
प्रश्नात्मक 333.22	
<b>सवालिया निश्चान (?)</b>	
प्रश्न वाचक चिह्न 425.35	
<b>सवालिया निश्चान लगावना</b>	
पूछना 333.19	
<b>सवाली</b>	
अभियोक्ता 875.5	
प्रश्न कर्ता 333.24	

प्राणी 350 18  
 फरियादी 350 22  
 भिक्षुक 642 5  
 मोंग कर्ता 656 2  
 याघक 642 19  
**सवास**  
 गधयुक्त 273 13  
**सविकल्प**  
 विकल्पतः 516 6  
**सविकार**  
 अविशुद्ध 219 8  
 परिवर्तनशील 532.17  
 परिवर्तित 532.16  
 पूयित 169 15  
 साकार ईश्वर 764 10  
**सविकारता**  
 परिवर्तनशीलता 532.2  
**सविग्रह**  
 सघर्षशील 905 32  
**सविद्यार**  
 विद्यारपूर्ण 330.18  
**सविता**  
 इंद्र 773 5  
 सविता 774.95 ⇨  
 सूर्य 8 1  
**सवितु**  
 सविता 774 95  
 सूर्य 8.1  
**सविद्य**  
 विज्ञानी 307.12  
**सविद्येय**  
 ईश्यापूर्ण 709.4  
**सविद्य**  
 समकोटीय 936.11  
**सविधि**  
 नियमानुकूल 879 18  
 नियमिततः 71.23  
 विधि संगत 514 14  
 संस्कारपूर्वक 798 49  
**सविनय**  
 विनम्र 733.19  
 विनम्र 733 19  
 विनम्रतः 733.23  
**सविनयता**  
 विनम्रता 733.8  
**सविनय निवेदन**  
 विनम्र निवेदन 350.2  
**सविनीतता**  
 विनम्रतः 733.23  
**सविराम**  
 विरामयुक्त 1048.5  
 सविरामतः 1048.8  
**सविरामता**  
 सविरामतः 1048.8 ⇨  
**सविशेष**  
 विरुद्धतः 886.8  
**सविलास**  
 क्रीडापूर्वक 469.17

**सविवरण**  
 विवरणात्मक 449.28  
 सविस्तार विवृत 449 29  
**सविवेक अहं**  
 अंतरात्मा 351 4  
**सविशेष**  
 विशिष्ट 312 15  
**सविश्र्वास**  
 विश्वासी 340 14  
**सविस्तार**  
 सविस्तार विवृत 449 29  
**सविस्तार**  
 विवरणपूर्वक 449 32  
 सविस्तार विवृत 449 29  
**सविस्तार अर्थ**  
 भाष्य 427 11  
**सविस्तारता**  
 असंक्षिप्तता 978 3  
**सविस्तार पठन**  
 पूर्ण पठन 321 29  
**सविस्तार विवरण**  
 सविस्तार विवरण 449.11 ⇨  
**सविस्तार विवरण करना**  
 सविस्तार विवरण करना 449 21 ⇨  
**सविस्तार विवृत**  
 सविस्तार विवृत 449 29 ⇨  
**सविस्मय**  
 आश्चर्यपूर्वक 379 11  
 सदेहपूर्वक 341 11  
**सवीरता**  
 वीरोचिततः 396 10  
**सवेग**  
 गतिशील 1042.11  
**सवेगता**  
 गतिशीलता 1042 2  
**सवेग लहर**  
 तीव्र लहर 1040 21  
**सवेदना**  
 संवेदना 393 1  
**सवेरा**  
 प्रभात काल 47 4  
**सवेरे**  
 प्रभात मे 47 21  
**सवेश**  
 पकोसी 31 4  
**सवेधतः**  
 अधिकारपूर्वक 847.20  
**सवेमनस्य**  
 वैमनस्यपूर्ण 706.21  
**सवेया**  
 अधिक 944.5  
 सबाया 949.32  
 सवेया 452.18 ⇨  
**सव्य**  
 दक्षिण पार्श्वीय 997.21  
 दक्षिणी 29.31  
 दाम पार्श्वीय 997.22  
 विरोधी 886.7

**सव्यवसाय**  
 आजीविकायुक्त 650.18  
**सव्यवस्था**  
 व्यवस्थिततः 893 17  
**सव्यसाधिता**  
 दुहस्थापन 487 10  
 बयँहस्थापन 487.11  
**सव्यसाधी**  
 अर्जुन 771.36  
 कठिन कार्यक्षम 487 28  
 कृष्ण 771 1  
 दुहस्था 487 29  
 बयँहस्था 487 30  
**सव्याख्या**  
 विवरणपूर्वक 449 32  
**सव्याज**  
 व्याजयुक्त 633 37  
**सव्येष्टा**  
 सारथी 1079 10  
**सव्रीक**  
 लज्जावश 845 15  
**सशंक**  
 आशंकिततः 377 14  
 सदिग्ध 341 9  
**सशंकना**  
 सदेह करना 341 5  
**सशक्त**  
 प्रबल 487 24  
 बलिष्ठ 160.10  
 शक्तिशाली 487 20  
**सशक्तता**  
 बलिष्ठता 160.1  
**सशत्रु**  
 शत्रुपूर्ण 706.16  
**सशपथ**  
 शपथपूर्ण 339 48  
**सशरीर**  
 शरीरी 139 13  
 साकार ईश्वर 764 10  
**सशरीरता**  
 साकारता 967 1  
**सशर्म**  
 परतुकतः 339 50  
 परंतुकतापूर्ण 339.37  
**सशर्तता**  
 परंतुकता 339 9  
**सशल्क दाल**  
 सशल्क दाल 188.3 ⇨  
**सशल्क**  
 कटकयुक्त 115 15  
 पीडाप्रद 392 26  
**सशास्त्र दल**  
 सेना 932.1  
**सशाति**  
 घटनाहीन 75 16  
 शांतिपूर्ण 372 8  
**सशिक्षिलता**  
 शिक्षिलतः 1045.16

**सशिष्टाचार**  
 शिष्ट 733 18  
**सशीर्ष**  
 सिरयुक्त 140.23  
**सशीश**  
 सिरयुक्त 140 23  
**सशुल्क**  
 सशुल्क 665.7 ⇨  
**सशेष**  
 अवशिष्टांशीय 939.17  
 अवशेषयुक्त 939 18  
 आंशिक 939 11  
 शेष फलयुक्त 954 15  
**सशेषकल**  
 शेष फलयुक्त 954 15  
**सश्रद्धा**  
 श्रद्धालु 340 18  
**सश्रम आय**  
 सश्रम आय 643 2 ⇨  
**सश्रम आय भोगना**  
 स्वावलंबी होना 648 6  
**सश्रीक**  
 सुंदर 157 7  
 सौभाग्यशाली 260.33  
**सशलाघा**  
 आत्मप्रशंसापूर्ण 842.11  
**सश्र्वास**  
 श्वासयुक्त 245.23  
**ससंकल्प**  
 सकल्पपूर्वक 500.16  
**ससंख्य**  
 ससंख्य 942.22 ⇨  
**ससंख्यता**  
 ससंख्यता 942 8 ⇨  
**ससंख्या**  
 संख्यायुक्त 948 84  
**ससंग**  
 प्रवृत्तिशील 502 9  
**ससंज्ञा**  
 धेतनायुक्त 263 12  
 स्पर्शानुभूतियुक्त 269 12  
**ससंज्ञता**  
 धेतना 263 4  
**ससंतान**  
 संतानवान 239 9  
**ससंतानता**  
 ससंतानता 239.1 ⇨  
**ससंदर्भ**  
 संदर्भतः 437 18  
**ससंदेह**  
 सदेहपूर्वक 341.11  
**ससंपर्क**  
 संपर्कागत 703.11  
**ससंपर्क उद्दान**  
 ससंपर्क उद्दान 1081.13 ⇨  
**ससंभ्रम**  
 सम्भ्रानपूर्वक 854.24

## ससंयोग

ससंयोग	ससुर: साला	सस्वर पाठ	सहकर्म करना
संयोगपूर्ण 69.9	मीलसरा 724 18	तरन्नुम 460.22	सहकर्म करना 700.16 ⇨
ससंशय	ससुर: सास	सस्वर पाठक	सहकर्मधारिता
संदेहपूर्वक 341.11	नानस 724.17	वाचयिता 399.9	सहकर्मधारिता 652.30 ⇨
ससंस्कार	ससुरा	सस्वर वाचन	सहकर्मी
संस्कारपूर्वक 798.49	ससुर 724.6	सस्वर वाचन 399.8 ⇨	सहकर्मी 700.22 ⇨
ससखा	ससुराल	सस्वागत	सहकारी कर्मचारी 652.31
मित्रयुक्त 705.28	ससुराल 601.9 ⇨	स्वागतपूर्वक 1059.28	सहकर्मी होना
ससख	ससुराल (अपराधी बोलचाल)	सस्वागत आनयन	सहकर्म करना 700.16
अस्तित्वशाली 246 11	कारागार 868 21	समानयन 1059.13	सह कलाकार
ससभय	ससुरी	सस्वाद	सह अभिनेता 464.8
समयानुसारत 61.7	सास 724.7	स्वादयुक्त 275.15	सहकार
ससभयता	ससुविधा	सस्वामी	सहकर्मधारिता 652.30
समयानुसारता 61 1	सुविधापूर्वक 518.25	स्वामीयुक्त 621.24	सहकारिता 700.6
ससम्मान	ससैन्य	सस्वार्थ मित्र	सहकारिता
पत्रात स्तुति आदि सूची 444.42	ससैन्य 932.35 ⇨	सस्वार्थ मित्र 705.8 ⇨	मित्र वत्सलता 705.17
सम्मानपूर्वक 854.24	सस्तर	सस्वार्थ मित्रता	सहकर्मधारिता 652 30
ससहभक्ति	मानकयुक्त 957.7	सस्वार्थ मित्रता 705.7 ⇨	सहकारिता 700.6 ⇨
सर्वसहमत 337.21	सस्ता [सस्ती]	सस्वार्थ मित्र होना	सहकारी
ससहयोग	अधम 840.4	सस्वार्थ मित्र होना 705.21 ⇨	अधीनस्थ 652 40
मित्रतापूर्ण 705 26	अल्पमूल्य 664 32	सहैगा [सहैगी]	सहकर्मी 700 22
ससहाय	अवमानक 957.9	अव्ययसाध्य 644.21	सहकारी (संपत्ति) 621.28
मित्रयुक्त 705 28	अव्ययसाध्य 644.21	मंदा [मंदी] 664.33	सहकारी कर्मचारी 652.31
ससहाय 700.26 ⇨	खोटा [खोटी] 98 13	सह	सहकारी संस्था 700 8
ससहायता	निकृष्ट 314 5	पार्श्वचरत 696.28	सामूहिक 690 13
ससहाय 700.26	मंदा [मंदी] 664.33	सह-	सहकारी (संपत्ति)
ससहायता 700.12 ⇨	सामान्य 311 3	समकालीन 59.3	सहकारी (संपत्ति) 621.28 ⇨
ससा	सस्तापन	सह	सहकारी कर्मचारी
खरगोश 127 63	अल्पमूल्यता 664 12	समकालीन 59.3	सहकारी कर्मचारी 652.31 ⇨
ससामंजस्य	सस्ती	सहित 1006 2	सहकारी कृषक
स्वर सामंजस्यपूर्ण 460 45	व्यापारिक मंदी 664.13	सहित उपसर्ग सूची 1006 4	सहकारी कृषक 553.30 ⇨
ससार	सस्ती बिक्री	सह	सहकारी खेती
सारपूर्ण 84.19	सस्ती बिक्री 661 7 ⇨	सहितत 1006.3	सहकारी खेती 553.29 ⇨
ससाहस	सस्ती बेच्य	सह अपराधिता	सहकारी भवन
वीरोधितत 396 10	सस्ती बेच्य 807.8 ⇨	सह अपराधिता 861 4 ⇨	सहकारी भवन 602.26 ⇨
ससीम	सस्ते भाव	सह अपराधी	सहकारी भवन निर्माण समिति
परिसीमित 1001.35	अल्पमूल्यत 664 39	सह अपराधी	सहकारी भवन 802 26
ससीम 1001.33 ⇨	सस्ते में	सह अपराधीत्व	सहकारी संस्था
साकार 967 12	अल्पमूल्यत 664.39	सह अपराधिता 861 4	सहकारी संस्था 700.8 ⇨
ससीमता	सस्नेह	सह अपराधिता 861 4	सहकारी समिति
ससीमता 1001.2 ⇨	पत्रात स्तुति आदि सूची 444.42	सह अभिनेता	सहकारी समिति 700.7 ⇨
साकारता 967 1	लाकपूर्ण 721 14	सह अभिनेता	सहकाल
ससीम होना	सस्पर्क करना	सह आचरण	समकाल 59.1
ससीम होना 1001 29 ⇨	निलंबित करना 653.26	सहकर्म 700.3	सहकाल में
ससुर	सस्पर्क (अँ)	सह आचरण कर्ता	समकाल में 59.4
ससुर 724.6 ⇨	गेलिस 571.28	सहकर्मी 700.22	सहकालीन
ससुर: छोटा भाई	सस्पर्शन (अँ)	सह उद्बुद्धयन	समकालीन 59.3
पीतसरा 724.12	कमानी 1076.24	दल उद्बुद्धयन	सहकालीनता
ससुर: पिता	सेवा निलंबन 653 14	सह उपस्थिति	समकालीनता 59.2
दादसरा 724 8	सस्यक	उपस्थिति 1021.2	सहकुल
ससुर: बका भाई	शस्त्र 922.2	सहकरण	सहवंश 727.3
तायसरा 724 10	सस्य क्षेत्र	एकीकरण 698.3	सहकृद
ससुर: बहन	धान. खेत 551.7	सहकर्मा 700.3	सहकृद
फूफस 724.15	सस्रोत	सहकर्ता	सहकृद 1086.4 ⇨
ससुर: बहनीई	जलस्रोतयुक्त 21.34	सहकर्मी 700.22	सहकर्मिणीयता
फूफसरा 724 14	सस्वभाव	सहकारी कर्मचारी 652.31	संकेद्रता 971.11
ससुर: ससुर	स्वभावयुक्त 836.10	सहकर्म	सह खिलाड़ी
नानसरा 724 16		सहकर्म 700.3 ⇨	सह खिलाड़ी 475.5 ⇨

सहगमन  
सतीः चितारोहण 249 16  
सहयात्रा 1088 1  
सहगान  
समूह गायन 460 33  
सहगायन 460.29  
सहगायिनी  
पत्नी 803 6  
सहगाथी [सहगायिनी]  
सहयात्री 1088.2  
सहगायक  
समूह गायक 460 34  
सहगायक 460 30 ⇨  
सहगायन  
समूह गायन 460 33  
सहगायन 460.29 ⇨  
सहगीत्र  
सगोत्रीय 729.13  
सहगीन  
सहयात्रा 1088 1  
सहघर  
अनुगामी 1096 10  
आज्ञा पालक 347 12  
जोड़ीदार 687.24  
पति 803.5  
पार्श्वघर 696 18  
पुरुष मित्र 705 2  
सहयात्री 1088 2  
सेवक 651 25  
सहघर [सहघरी]  
सगी 696.2  
सहकर्मी 700.22  
सहघरण  
सहयात्रा 1088 1  
सहघरतः  
सग संग 696.26  
सहघरता  
संगति 696.1  
सहघरहीनता  
एकांतता 697.3  
सहघरी  
पत्नी 803.6  
विश्वस्त दासी 651.12  
स्त्री मित्र 705.3  
सहघर्य  
प्रिय संयोग 389.3  
सहघर्या  
पार्श्वघर्या 696.17  
मित्रता 705.1  
विवाह 799 1  
व्यवहार 703.2  
संगति 696.1  
सहकर्म 700.3  
सहयात्रा 1088.1  
सहघारिता  
संगति 696.1  
सहघारी [सहघारिणी]  
संगी 696.2

सहज  
अकर्तृक 505.22  
अनलकृत 227.5  
अप्रयत्नतः 490 15  
दर्पहीन 859.6  
सगा भाई 723 9  
सहज 518.14 ⇨  
सहज (भाषा) 421 33  
सह्य 872 18  
सामान्य 311 3  
सुनिवार्य 920 20  
सुलझा [सुलझी] 574 15  
स्थिरचित्त 355 6  
स्वाभाविक 836 11  
सहज (भाषा)  
सहज (भाषा) 421 33 ⇨  
सहज आराध्य  
सहज आराध्य 400.23 ⇨  
सहज कार्य  
सहज कार्य 518.2 ⇨  
सहजगम्यता  
गम्यता 518 6  
सहजचित्त  
स्थिरचित्त 355 6  
सहजचित्तता  
स्थिरचित्तता 355 2  
सहज ज्ञान  
अतज्ञान 761 3  
अध्यात्म 761 1  
जन्मजात ज्ञान 305 9  
सहज ज्ञानी  
अतज्ञानी 761 26  
अध्यात्मज्ञ 761 25  
सहजतः  
अप्रयत्नतः 490 15  
सहजतः 518.24 ⇨  
सहजता  
अनलकृतता 227 2  
दर्पहीनता 859 3  
बोध्यता 518.5  
सरलता 817 2  
सहजता 518.1 ⇨  
सामान्यता 311 1  
सुलझापन 574 6  
स्थिरचित्तता 355 2  
स्पष्टता 822 1  
स्वाभाविकता 836 5  
सहज तुष्ट  
सहज तुष्ट 374 21 ⇨  
सहज तुष्ट होना  
सहज तुष्ट होना 374.15 ⇨  
सहज तुष्टि  
सहज तुष्टि 374.9 ⇨  
सहज दयालु  
सहज दयालु 834.13 ⇨  
सहजन  
नगर वृक्ष सूची 13.2  
सहजन 13.24 ⇨

सहजना  
सहजन 13 24  
सहजन्म  
यमजता 723 15  
सहज पका  
कालजात 62 17  
सहज पाध्य  
सुपाध्य 178 8  
सहज प्रकृति  
स्वभाव 836 4  
सहज प्रसन्नशीलता  
सहज तुष्टि 374 9  
सहज प्राप्य  
सुलभ 943 10  
सहज प्राप्यता  
सुलभता 943 2  
सहज बुद्धि  
सहज बुद्धि 301 3 ⇨  
सहज बोध  
सहज बुद्धि 301 3  
सहज भाषा  
सहज भाषा 421 23 ⇨  
सहज मित्र  
भानजा 722 43  
सहज योग्यता  
प्रतिभा 301 8  
सहज वत्सल  
सहज दयालु 834 13  
सहज विकास  
उद्विकास 534 7  
सहज विश्वासशील  
सहज विश्वासी 340.16  
सहज विश्वासशीलता  
सहज विश्वासशीलता 340.4 ⇨  
सहज विश्वासी  
सहज विश्वासी 340 16 ⇨  
सहज साध्य  
सहज 518 14  
सहज सुलभता  
सुलभता 943 2  
सहज होना  
सहज होना 518.12 ⇨  
सहजता  
मानव अरुचित 528.9  
समवयस्क 229 24  
सहवशी 727 30  
स्वाभाविक 836 11  
सहजात [सहजाता]  
यमज 723 26  
सहजातीय  
सजातीय 730 21  
सहजानुभूति  
अतज्ञान 761.3  
रसानुभूति 455.4  
सहजारि  
सौतेला भाई 723.22  
सहजीवन  
दोषस्य संबंध 803.2

संगति 696 1  
सहजीवी  
दलघर 696 12  
सहजीवासीन  
अल्प परिचित 704 24  
सहठ  
हठपूर्वक 349.15  
सहता [सहती]  
मदा [मदी] 6f- 33  
सहदारा  
सपत्नीक 803 20  
सहदेव  
पथ पाडव सूची 771.29  
सहदेव 771.96 ⇨  
सहधंधी  
समव्यवसायी 650 27  
सहधर्म  
सहधर्म 735.9 ⇨  
सहधर्म परधर्म  
स्वधर्म परधर्म 735.6  
सहधर्मिणी  
पत्नी 803 6  
सहधर्मी  
पति 803 5  
सहधर्मी 735 19 ⇨  
सहन  
ऑंगन 604 4  
परिक्षेत्र 34 3  
परिसर 604 1  
प्रहार सहन 920 1  
मैदान 11 1  
सहन 872.5 ⇨  
सहन कर्ता 872 19  
सहिष्णुता 872 4  
सहन करना  
सहन करना 872 9 ⇨  
सहन कर्ता  
प्रहार सहन कर्ता 920 16  
सहन कर्ता 872 19 ⇨  
सहनभाव .  
सह्य 872 18  
सहनधी  
दालान पार्श्व कोठरी 614.5  
सहन न करना  
सहन न करना 873 9 ⇨  
सहनशील  
अत्याचार सहन कर्ता 835.14  
धैर्यशील 394 15  
संतोषशील 380 19  
सहिष्णु 872 16  
सहनशीलता  
सहिष्णुता 872 4  
सहन हो पाना  
सहन हो पाना 872.8 ⇨  
सहना  
प्रहार सहना 920.12  
सहन करना 872.9  
सहिष्णु होना 872.7

## सहनाम

### सहनाम

सहनामी 315 16  
सहनामता  
सहनामता 315.11 ⇨  
सहनामी  
सहनामी 315 16 ⇨  
सहनायक  
उपनायक 467 7  
सहनायिका  
उपनायिका 467 11  
सहनिवास  
सहनिवास 616.3 ⇨  
सहनिवासी  
सहनिवासी 616.14 ⇨  
सहनीय  
सह्य 872 18  
सहनोन्माद  
आत्मपीडनोन्माद 353 18  
सहपंथ  
सहयात्री 1088 2  
सहपंथा  
सहकर्मी 700 22  
सहयात्री 1088 2  
सहपंथिता  
सगति 696 1  
सहपंथी  
सगी 696 2  
सहधर्मी 735 19  
सहपत्नी  
सौत 803 9  
सहपत्नीक  
सपत्नीक 803 20  
सहपाठी  
गुरुभाई 323 28  
सहपाठी 323 27 ⇨  
सहपान (दे.)  
भोज 183 1  
सहपानक  
मद्यपान गोष्ठी 209 23  
सहपायी  
सहभोजी 183 38  
सहबंधन  
विवाह 799 1  
सहबंधु  
रिश्तेदार 715 6  
सहवंशी 727 30  
सहबाला  
शहबाला 801.14  
सहबुद्धि  
ज्ञानपूर्ण 305 28  
सहभाग  
समविभाजन 699.7  
सहभागिता  
सह अपरायिता 861 4  
सहकर्म 700 3  
साझेदारी 821.7  
सहभागिता खेल  
सहभागी खेल 475.4 ⇨

### सहभागी

असाधिकारी 623 24  
सह अपराधी 861 5  
सहोत्तराधिकारी 623 3  
साझेदार 621 8  
सहभागी [सहभागिनी]  
सहकर्मी 700 22  
सहभागी खेल  
सहभागी खेल 475.4 ⇨  
सहभाजी  
सह अपराधी 861 5  
सहभार्य  
सपत्नीक 803 20  
सहभाव  
सहभावना 352 15  
सहभावना  
सहभावना 352 15 ⇨  
सहभावी  
दलवर 696 12  
सहभू  
यमज 723 26  
सगा भाई 723.18  
सहभूत  
एकीकृत 698 10  
सलग्न 1010 18  
सहभूति  
एकीभवन 698 4  
सहभोज  
कम्यूनियन 751 20  
सहभोज 183 4 ⇨  
सहभोज (दे.)  
भोज 183 1  
सहभोज अधिकार  
सहभोज अधिकार 183 3 ⇨  
सहभोजी  
सहभोजी 183.38 ⇨  
सहम  
सहम 395 3 ⇨  
सहमत  
सहमत 337 19 ⇨  
सहमत करना  
आपति निवारण करना 326 13  
सहमतता  
सहमति 337 3  
सहमत न होना  
मतभेद होना 338 20  
सहमत होना  
सहमत होना 337.11 ⇨  
सहमति  
अनुबंध 339 1  
सर्व सहमति 337.4  
सहमति 337.3 ⇨  
स्वीकृति 337.1  
सहमति अप्राप्त  
अस्वीकृत 338 33  
सहमति अप्राप्ति  
अस्वीकृति 338.1

### सहमति देना

अनुमति देना 337 12  
सहमति न देना  
अस्वीकार करना 338 18  
सहमति पत्र  
सहमति पत्र 339 7 ⇨  
सहमतिपूर्ण  
सर्वसहमत 337 21  
सहमति प्राप्त  
सहमति प्राप्त 337 20 ⇨  
सहमतिहीन  
अस्वीकृत 338 33  
सहमतिहीनता  
मतभेद 338 4  
सहमते  
भयभीतता 395 30  
सहमता  
सदेह करना 341 5  
सहमना 395.15 ⇨  
सहमरण  
सती चितारोहण 249 16  
सहमा [सहमी]  
सहमा [सहमी] 395 21 ⇨  
सहमातृ  
मातायुक्त 719 8  
सहमातृक  
मातायुक्त 719 8  
सहमापन  
सहमापन 395 4 ⇨  
सहयात्रा  
सहयात्रा 1088 1 ⇨  
सहयात्री  
सहयात्री 1088 2 ⇨  
सहयायी  
अनुगामी 345 7  
जोड़ीदार 687 24  
पार्श्वचर 696 18  
सहयोग  
कृषि सहयोग 553 27  
मित्रता 705 1  
मित्र वत्सलता 705.17  
सहयोग 700 1 ⇨  
सहायता 700 11  
सहयोग अकर्ता  
असहयोगी 701 7  
सहयोग करना  
सहयोग करना 700.14 ⇨  
सहयोग कर्ता  
सहयोग कर्ता 700.20 ⇨  
सहयोग देना  
सहयोग करना 700.14  
सहयोग न करना  
सहयोग न करना 701.4 ⇨  
सहयोगपूर्ण  
सहयोगपूर्ण 700.18 ⇨  
सहयोग समर्पक  
सहयोग समर्पक 700.21 ⇨

### सहयोग समर्पण

सहयोग समर्पण 700.2 ⇨  
सहयोग समर्पण करना  
सहयोग समर्पण करना 700.15 ⇨  
सहयोगहीनता  
असहयोग 701 1  
सहयोगिता  
सहयोग 700 1  
सहयोगी  
अधीनस्थ 652 40  
मित्र वत्सल 705 27  
सहकारी कर्मचारी 652 31  
सहयोग कर्ता 700 20  
सहायता दाता 700 25  
सहर  
प्रभात काल 47 4  
सहरगद्दी  
उपवास आरम भोजन 748 14  
सहरदम  
प्रभात मे 47 21  
सहरा  
मरुथल 11 11  
सहरा गर्दी  
वन विचरण 1085 3  
सहरी  
उपवास आरम भोजन 748 14  
प्रभात कालीन 47 19  
शफरी 125.12  
सहरुदन  
सहरुदन 386.2 ⇨  
सहर्ष  
प्रसन्नतापूर्वक 381 11  
सहलंगी  
सहयात्री 1088 2  
सहल  
बोध्य 518 17  
रहस्यहीन 822 22  
सहज 518 14  
सहलाना  
गुदगुदी करना 385.10  
थपकना 296 25  
सहलाना 393 15 ⇨  
सहलाने वाला  
सहलाने वाला 393.23 ⇨  
सहलावन  
सहलावन 393.9 ⇨  
सहलावनि  
सहलावन 393.9  
सहवंश  
सहवंश 727.3 ⇨  
सहवंशी  
सहवंशी 727.30 ⇨  
सहवंशीय  
सहवंशी 727.30  
सहवर  
शहबाला 801.14  
सहवर्गीय  
समकोटीय 936 11

सहवर्ण  
इकरणा [इकरणी] 289 71  
सहवर्णीय  
सजातीय 730.21  
सहवर्तिता  
समकालीनता 59 2  
सहवर्ती  
निकटस्थ 31 7  
समकालीन 59 3  
सहवादन  
याद्य संगत 461 3  
सहवास  
रति सयोग 237 10  
सहन्यास 616 3  
सहवास अधिकार  
दापत्य अधिकार 803 3  
सहवासी  
सहन्यासी 616 14  
स्वदेश वासी 34 21  
सहवासी [सहवासिनी]  
सगी 696 2  
सहवेदनशील  
सवेदनशील 393 18  
सहवेदनशीलता  
सवेदनशीलता 393 2  
सहवेदना  
सवेदना 393 1  
सहशिक्षक  
उपाध्याय 323 12  
सहसंगीत  
समूह गायन 460 33  
सहसा  
अकस्मात् 69.13  
सहसा आगत  
सहसा आगत 1093 15 ⇨  
सहसा आगमन  
सहसा आगमन 1093 3 ⇨  
सहसा आना  
सहसा आना 1093.8 ⇨  
सहसा कल्पना  
सहसा कल्पना 308.3 ⇨  
सहसाघात  
आघात 169.2  
सहसा निपात  
पस्ती 169.6  
सहसानु  
धैर्यशील 394.15  
सहसा परिवर्तन  
उत्परिवर्तन 534.6  
सहसा सत्ता अपहरण  
सहसा सत्ता अपहरण 902.6 ⇨  
सहस्र  
कर्मचारी 652.27  
सहस्र  
हजार 948.72  
सहस्रक  
सहस्रक 446.29 ⇨  
हजार 948.72

हजार समुदाय 687 23  
सहस्रग  
इंद्र 773 5  
सहस्रगुण  
हजारगुना 949 50  
सहस्रघरण  
विष्णु 768 1  
सहस्रजित  
महायोद्धा 534 20  
विष्णु 768 1  
सहस्रजित्-  
शिव 767 1  
सहस्रतय  
हजार 948 72  
हजारगुना 949 50  
सहस्रदल  
कमल 14 4  
सहस्रब्रह्मा  
पाठीन 125 7  
सहस्रधा  
हजारगुना 949 50  
सहस्र धार  
फुहारा 1032 10  
सिधन. फुहारा 1032 12  
सुदर्शन चक्र 928 3  
सहस्रनयन  
विष्णु 768 1  
सहस्रनेत्र  
विष्णु 768 1  
सहस्र पाद  
कीट सूची 122 12  
पुरुष 764 21  
सहस्रफन  
शेषनाग 778 22  
सहस्रबाहु  
कार्तवीर्य 769 31  
सहस्र भागवती  
दुर्गा मूर्ति सूची 746 4  
सहस्रभुज  
शिव 767 1  
सहस्रभुजा  
दुर्गा 776 7  
लक्ष्मी 775 1  
सहस्रमूर्धा  
शिव 767 1  
सहस्रयोनि  
इंद्र 773.5  
सहस्रलोचन  
इंद्र 773.5  
विष्णु 768 1  
सहस्र वाक  
सहस्रक 446 29  
सहस्रशः  
असंख्यता 944 13  
विविधतः 310.11  
सहस्र हलौकी  
सहस्रक 446.29

सहस्रांशु  
विष्णु 768 1  
सूर्य 8 1  
सहस्रांशुज  
शनि ग्रह 7 8  
सहस्राक्ष  
पुरुष 764 21  
सहस्रानन  
शेषनाग 778 22  
सहस्राब्दी  
सहस्राब्दी 42.26 ⇨  
सहस्राब्दी जयंती 58.9  
सहस्राब्दी जयंती  
सहस्राब्दी जयंती 58 9 ⇨  
सहस्राार  
सहस्राार 757 6 ⇨  
सहस्राधि  
विष्णु 768.1  
शिव 767 1  
सहस्राजुन  
कार्तवीर्य 769 31  
सहस्री  
हजारवाँ [हजारवी] 948 105  
सहस्रवामित्व  
साझेदारी 621 7  
सह स्वामी  
साझेदार 621 8  
सहापति  
बोधिसत्त्व सूची 793 16  
ब्रह्मा 766 1  
सहा  
पृथ्वी 9 1  
सहा [सही]  
पहा [सही] 872 17 ⇨  
सहाध्यायी  
सहापाठी 323 27  
सहानुगमन  
सहायात्रा 1088 1  
सहानुभूति  
दयालुता 834 4  
रसानुभूति 455.4  
सहानुभूति 393.3 ⇨  
साधारणीकरण 399.16  
सोमनस्य 705 18  
सहानुभूति करना  
सहानुभूति करना 393.11 ⇨  
सहानुभूति कर्ता  
सहानुभूति कर्ता 393 19 ⇨  
सहानुसरण  
अनुगमन 1096.2  
पार्श्वचर्या 696.17  
सहाय  
आमोघक 1015.11  
हरण 910 4  
शिव 767 1  
सहयोग 700.1  
सहायता 700.11  
सहायता दाता 700.25

सहायक  
अधीनस्थ 652 40  
रक्षक 908.20  
सकट मोचक 910 10  
सहकर्मी 700 22  
सहकारी कर्मचारी 652 31  
सहायता दाता 700 25  
सहायकता  
सहकर्मधारिताः 652 30  
सहायक नदी  
सहायक नदी 20.3 ⇨  
सहायक पाइलट  
सहायक पाइलट 1081.3 ⇨  
सहायक पुस्तक  
व्याख्या पुस्तक 446 31  
सहायक भाव  
सघारी भाव 358.5  
सहायक मित्र  
मित्र वत्सल 705 27  
सहायकयुक्त  
ससहाय 700 26  
सहायक संपादक  
संपादक सूची 445 16  
सहायक सूत्रधार  
सहायक सूत्रधार 468.15 ⇨  
सहायक सेना  
सहायक सेना 932 5 ⇨  
सहायकहीन  
असहाय 701 8  
सहायक होना  
सहायता करना 700 17  
सहायता  
अनुतोष 640 9  
उपकार 832 1  
मित्र वत्सलता 705 17  
रक्षा 908.1  
वित्तीय सहायता 633.2  
वृत्ति 641 17  
सकट मोचन 910.1  
सहयोग 700.1  
सहायता 700 11 ⇨  
सहायता अभाव  
असहयोग 701 1  
असहायता 701 2  
सहायता करना  
उपकार करना 832 7  
सकट दूर करना 910.6  
सहायता करना 700.17 ⇨  
सहायता दाता  
सहायता दाता 700.25 ⇨  
सहायता देना  
सहायता करना 700.17  
सहायता धन  
अनुदान 641.6  
सहायता न करना  
सहयोग न करना 701.4  
सहायतापूर्ण  
सहयोगपूर्ण 700.19

## सहायतायुक्त

सहायतायुक्त  
ससहाय 700.26  
सहायतायुक्तता  
ससहायता 700.12  
सहायता बैंक  
ऐबुलेस 1070 11  
सहायता से  
सहायता से 700.28 ⇨  
सहायताहीन  
असहाय 701.8  
सहायताहीनतः  
असहायता 701.10  
सहायताहीनता  
असहायता 701 2  
सहायी  
सहायत्री 1088 2  
सहारा  
प्रहार सहन 920.1  
प्रहार सहन शक्ति 920 2  
सहन 872 5  
सहिष्णुता 872 4  
सहारणा  
प्रहार सहन शक्ति 920 2  
सहारना  
प्रहार सहना 920 12  
शरण देना 910 8  
सहन करना 872 9  
सहारा  
आधार 596 1  
उत्थापन 1030 2  
पूर्ण आशा 375.3  
विश्वास 340 1  
शरण 910 4  
सहायता 700 11  
सहारा दीवार  
सहारा दीवार 607 4 ⇨  
सहारा देना  
धरना 1019 10  
शरण देना 910 8  
साथ चलना 1088 14  
सहारा देने वाला  
आधार दाता 1019.20  
उत्थापक 1030 22  
सहारा मिलना  
धरा जाना 1019 9  
सहारा लेना  
धरा जाना 1019 9  
शरण लेना 910 7  
सहारे  
सहायता से 700 28  
सहारे के लिए बैठी रस्ती  
गलजंदका 174 11  
सहालग  
साया 799 35  
सहायक  
साहुल 559.52  
सहास  
हास्यप्रद 384 14

सहास्य  
हास्यप्रद 384 14  
सहिजन  
सहजन 13 24  
सहिजन 281.32 ⇨  
सहित  
संग संग 696 26  
सयुक्त 1010 22  
सवरित 667 18  
सहित 1006 2 ⇨  
-सहित  
सहित. प्रत्यय सूची 1006 5  
सहित (दे.)  
समाविष्ट 1002 21  
सहित: उपसर्ग सूची  
सहित उपसर्ग सूची 1006 4 ⇨  
सहिततः  
सहितत 1006.3 ⇨  
सहितता  
सहितता 1006.1 ⇨  
सहित: प्रत्यय सूची  
सहित. प्रत्यय सूची 1006.5 ⇨  
सहिता  
सहिष्णु 872 16  
सहिम  
हिमयुक्त 90 16  
सहिष्णु  
दैर्घशील 394 15  
विष्णु 768 1  
सहिष्णु 872 16 ⇨  
सहिष्णुता  
क्षमा 872.1  
सहिष्णुता 872 4 ⇨  
सहिष्णु होना  
सहिष्णु होना 872 7 ⇨  
सही  
अभजित 539 13  
अवसरानुकूल 70 14  
उत्तम 313 11  
ऊर्ध्वमुख 1023 13  
घरितार्थ 438 8  
नियमानुकूल 879.18  
नैतिकतापूर्ण 815 5  
परिपूर्ण 313 14  
लक्ष्य पर 931 26  
लक्ष्यानुगामी 931.22  
वास्तविक 820 23  
वैध 878.26  
संगत 438.6  
सत्यतापूर्ण 820.20  
सही आकार का 961.16  
सामंजस्यपूर्ण 702 6  
स्वीकृति चिह्न 407 4  
हस्ताक्षर 444.8  
सही अवसर  
उपयुक्त अवसर 70.3  
सही आकार  
सही आकार 961.2 ⇨

सही आकार का  
सही आकार का 961 16 ⇨  
सही आकार होना  
सही आकार होना 961.15 ⇨  
सही करना  
भरमभत करना 538.7  
सत्य सिद्ध करना 820 18  
सही गलत  
विपरीतता उपमान सूची 310 13  
सही: चिह्न  
स्वीकृति चिह्न 407 4  
सही तराजू  
ठीक तराजू 962.13  
सही तौर पर  
सत्यत 820 25  
सही तौल  
ठीक तौल 962.6  
सही दिशा में  
अनुदिशत 1098.29  
सही न होना  
असत्य होना 821.12  
घरितार्थ न होना 439.4  
सही निशाना  
सफल लक्ष्य 931 4  
सहीपन  
संगतता 438 1  
सही माप  
सही आकार 961 2  
सही माप का  
सही आकार का 961 16  
सही माप का होना  
सही आकार होना 961 15  
सही मार्ग पर  
अनुमार्गत 1098.28  
सही मार्ग से हटना  
मार्गघ्युत होना 1099 5  
सही मीला  
प्रसंग अवसर 437 2  
सही रास्ता  
सच्चरित्रता 810 2  
सही रास्ते  
अनुमार्गत 1098 28  
सही वक्र  
प्रसंग अवसर 437 2  
सही समय पर  
उपयुक्त अवसर पर 70 16  
सही समय पर होना  
समय पर होना 61.3  
सही सलामत  
अभजित 539.13  
सुरक्षित 908.27  
स्वस्थ 161.5  
सही सलामती  
सुरक्षा 908.4  
सही साहज  
सही आकार 961.2  
साहसियत  
सुविधा 518.3

सहृदय  
कोमल स्वभावी 837.11  
दयालु 834.12  
प्रसन्नचित्त 837.16  
बुद्धिमान 301.21  
भावुक 358.26  
विद्वान व्यक्ति 319.2  
सदाशय 817.10  
सहृदयता  
कोमल स्वभाव 837 2  
गुणज्ञता 305.15  
दयालुता 834.4  
नम्र व्यवहार 830 3  
सहेजन  
संवरण 667 5  
सहेजना  
तह करना 975 24  
संवरण करना 667 11  
सहेजा  
तहाया [तहाई] 975 32  
दही जमाई द्रव्य 554 11  
सहेजा [सहेजी]  
संवरित 667 18  
सहेजू  
संवरण कर्ता 667.19  
सहेट  
अभिसार स्थल 237.2  
सहेतु  
कारणतः 507 7  
कारणयुक्त 507 5  
सहेतुक  
उद्देश्यपूर्वक 508 12  
प्रयोजनतः 508.11  
सहेथना  
संवरण करना 667 11  
सहेस  
घनिष्ठता 704.13  
संगति 696 1  
सहेली  
विश्वस्त दासी 651.12  
स्त्री मित्र 705.3  
सहेया  
सहन कर्ता 872.19  
सहोदज  
साधु संत आश्रम 745 5  
सहोद  
घोरी. माल खरीदार 864 9  
सहोदराधिकारी  
सहोदराधिकारी 623.3 ⇨  
सहोदर  
सगा भाई 723.18  
सहोदर 723.27 ⇨  
सहोदर [सहोदरा]  
सहोदर 723.27  
सहोदरता  
सहोदरता 723.17 ⇨  
सहोदर भाव  
सहोदरता 723 17



सहोदरा  
सगी बहन 723 19

सहोर

सत 790 9

साधु 790 16

सह्य

सह्य 872 18 ⇨

सह्य न होना

असह्य होना 8/3 10

सह्य होना

सहन हो पाना 872 8

साध्यात्मजा

कावेरी नदी 20 8

सह्याद्रि

भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1

सौक्य

शृङ्खला 569 26

सौकल

क्षेत्र मापन उपकरण 959.34

गला ज़र्री 555 13

शृङ्खला 569 26

सौकला 609 23

सौकला

सौकला 609.23 ⇨

सौकल्य

सकल्पीय 500.9

साकल्पिक

सकल्पीय 500 9

साकेतिक

प्रतीकाल्मक 408.17

साक्षेपिक

साराशित 449.30

साख्य

परिगणक 950 20

मीमांसक 427 30

विचारक 330.6

विवेचक 427.31

सख्या विषयक 948 83

साख्य दर्शन

छह आस्तिक दर्शन सूची 780 28

साख्य मुख्य

शिव 787.1

साख्य योग

ज्ञानयोग 756.8

साख्यवाद

साख्यवाद 760.26 ⇨

साख्यायन सूत्र

साख्यायन सूत्र 740.54 ⇨

साख्यिकी

साख्यिकी 953.10 ⇨

साख्यिकी विद

साख्यिकी विद 953.11 ⇨

सांग

छोटा भाला 925.5

भाला 925.4

लीवर 1062.3

सांग

शरीरी 139.13

सांग

सांग 463.16 ⇨

सांग कर्मी

सांग कर्मी 463.17 ⇨

सांगसिक

सगी 696.2

सांगम

संगमन 21 21

सांगा

भाला 925 4

सांगी

गाड़ीवान सीट 595 45

छोटा भाला 925 5

डिकी 1076 13

सांगी

सांग कर्मी 463 17

सांगोपांग

शरीरतः 139 16

सांगोपांगता

पूर्णाशता 940 5

सांग्रहिक

संकलनकार 446 33

सग्रह कर्ता 669 21

सांग्रामिक

यौद्धिक 905 33

सांग्रातिक

दलीय 691 7

सामूहिक 690 13

सांगिक

राज्य सर्घाय 881 33

संस्थानीय 692 31

सांधी

सघ अध्यक्ष 692 14

सांध

सत्य 820 1

सत्य वचन 820 10

सांधर नमक

काला नमक 279.6

सांधी

घातु पिंड सूची 976 12

संगलन पात्र सूची 565 17

सांधा 565.18 ⇨

सांधा [सांधी]

सत्यतापूर्ण 820.20

सांधा: डलाई

डलाई 565.7

सांधा बनाने वाला

सांधिया 565.19

सांधारिक

गतिशील 1042 11

सांधा सूची

सांधा सूची 565.20 ⇨

सांधिया

डलाई कर्मी 565 8

सांधिया 565.19 ⇨

सांधे में डलाई

सुडील 155.4

सांध

सांध्य लालिमा 287.15

सायंकाल 47.13

सायंकालीन अर्धप्रकाश 287.12

सांधा [सांधी]

सामूहिक 690 13

सांधी

सांधी 57.29 ⇨

सांधी 774.96 ⇨

सांध

घातुक 555.23

छडी 923 3

सांधिया

मुनादी वाला 441.24

सांधी

कमची 923 1

घनिष्ठता 704 13

ढोल डग्गा 461 96

प्रतिशोध 873.2

सगति 696 1

सामयस्य 702 1

सांध

सरकडा 597 11

सांधगाँठ

सगति 696 1

सांधगाँठ 827.9 ⇨

सांध

अनडाकर्षित 238.14

सांध

लफ़ंगा 811.8

सांध 127 12 ⇨

सांध

सांध 127.12

सांधनी

नादा ऊँट 127.28

सांध बैल: कूब

सांध बैल: कूब 147.10 ⇨

सांधिया

ऊँट 127 27

ऊँट सवार 1082.10

सांध

भनयुक्त 995 10

सांधानिक

प्रसारशील 979.18

सांधव

सांधव 393.22 ⇨

सांधन

प्रसन्न 381.2

सांधना प्रदान 393.5

सांधना

संतोष 360.5

संदेह निवारण 340.7

सांधना 393.4 ⇨

सांधना देना

पुष्कारना 393 14

सांधना देना 393.12 ⇨

सांधना पुरस्कार

सांधना पुरस्कार 857.6 ⇨

सांधनापूर्ण

सांधनापूर्ण 393.20 ⇨

सांधनाप्रद

सांधव 393.22

सांधना प्रदान

सांधना प्रदान 393.5 ⇨

सांधित

सांधित 393.21 ⇨

सांधरी

घटाई 593.49

सांध

गला: सूँटा 555 12

सांधीपनि

त्रिभि मुनि सूची 789.17

सांधीपनि 771.97 ⇨

सांधुष्टिक

मौगदेय 634.30

सांध

अत्यधिक 944.7

गहन 1004 16

प्रगाढ़ 81.14

मोटा [मोटी] 965.12

वसायुक्त 132.22

सघन 81.15

सांधता

सघन बुनावट 576 13

सांध

लक्ष्य अभ्यास 931.8

लक्ष्य संधान 931 9

सांधना

लक्ष्य साधना 931.15

सांध

सायंकालीन 47.20

सांध्य आहार

सांध्य आहार 199.4 ⇨

सांध्य दीपक

सांध्य दीपक 285.16 ⇨

सांध्य देवता

सरस्वती 775 8

सांध्य लालिमा

सांध्य लालिमा 287.15 ⇨

सांध

आतिशबाजी सूची 56.8

सर्प 123.10

सांध का काटा

सर्प दंश 918.12

सांध की छतरी

कुकुरमुत्ता 189.13

सांध की ब्राह्मणी

बमनी छिपकली 123.8

सांध गच्छ

शत्रुता: उपमान सूची 706.22

सांध छद्मेश्वर

शत्रुता: उपमान सूची 706.22

सांधव

संपत्तीय 624.15

सांधिक

संपत्तीय 624.15

## सौंपन

### सौंपन

- मादा सर्प 123.11  
रोम लहरी 135 7
- सौंपन बल**  
सर्पिल मोड़ 974 13
- सौंपन मोड़**  
सर्पिल मोड़ 974 13
- सौंप नेबला**  
शत्रुता उपमान सूची 706 22
- सौंप बिल**  
सौंप बिल 603.8 ⇨
- सौंप मोर**  
शत्रुता उपमान सूची 706.22
- सौंपराय**  
युद्ध 905 4
- सौंप: शिशु**  
सौंप. शिशु 230.7 ⇨
- सौंप सौंपोला**  
सर्प 123 10
- सौंपा**  
मृत्यु विलाप 253 15
- सौंपान**  
नौका सूची 1072.3  
शिकारा 1072 23
- सौंपिन**  
मादा सर्प 123.11
- सौंप्रत**  
वर्तमान कालीन 36 21
- सौंप्रतिक**  
अवसरानुकूल 70 14  
आधुनिक 64 7
- सौंप्रदायिक**  
धर्मीय 735.11  
पारंपरिक 795 13
- सौंप्रदायिक चिह्न**  
धर्म चिह्न 407.7
- सौंप्रदायिकता**  
संप्रदायवाद 884 23
- सौंप्रथिक**  
विवाह संबंध 724 1
- सौंप**  
शिव 767 1
- सौंपरी**  
जादू 474.2  
जादूगरनी 474.12
- सौंप सदाशिव**  
शिव पार्वती 767 3
- सौंपाधिक**  
रात दूसरा पहर 49.8
- सौंपर**  
सौंपर 127.48 ⇨  
सौंपर 201.14 ⇨
- सौंपर नमक**  
त्रिलयण सूची 279.3  
सौंपर नमक 279.8 ⇨
- सौंप सौंप**  
सनसनाहट 297.39

### सौंपुगीन

- प्रशिक्षित सैनिक 934.2
- सौंपत्सर**  
पंचांग शास्त्री 41 7  
वर्षीय 42 27
- सौंपत्सर पथ**  
सूर्य 8.1
- सौंपत्सरिक**  
खगोल विज्ञानी 1 5  
ज्योतिषी 261 2  
पंचांग शास्त्री 41 7  
वर्षीय 42 27
- सौंपरा**  
कृष्ण 771.1  
पति 803 5  
प्रेमी 368 2
- सौंपरिया**  
कृष्ण 771 1  
प्रेमी 368 2
- सौंपरी**  
प्रेमपात्रा 369 5
- सौंपला**  
कृष्ण 771 1  
पति 803 5  
प्रेमी 368 2
- सौंपला [सौंपली]**  
हलका काला 289.39
- सौंपला सलोना**  
कृष्ण 771 1
- सौंपलिया**  
कृष्ण 771 1  
पति 803 5  
प्रेमी 368 2
- सौंपली**  
प्रेमपात्रा 369.5
- सौंपी**  
अनाज सूची 187.6
- सौंपादिक**  
न्याय विषयक 874.33  
प्रचलित (बोली) 421 32
- सौंपा**  
खडीय 938.50
- सौंपातः**  
आशिकतः 939 20
- सौंप**  
दमा 163.18  
प्राण तर्क 245.1  
विश्राम काल 494.2  
स्वास 245.4
- सौंप अटकना**  
स्वासावरोध होना 245.18
- सौंप की घुटन**  
स्वासावरोध 245.9
- सौंप की नली**  
स्वास वाहिका 145.15
- सौंप गिनना**  
मरणसात्र होना 249.21

### सौंप घबना

- हॉफना 245.22
- सौंप घबाना**  
सौंप साधना 245.19
- सौंप चलना**  
सौंप चलना 245.17 ⇨
- सौंप घुटना**  
मरना 249 18
- सौंप टुटना**  
मरना 249 18
- सौंप डालना**  
अनुप्राणित करना 1046 19
- सौंपत**  
दुबिधा 501 1  
दुर्दशा 627 8  
यंत्रणा 391.13  
सकट 909.1
- सौंपत घर**  
काल कोठरी 868.24  
यंत्रणा गृह 391 16
- सौंपद**  
निकट आसीन 1028.11  
निर्वाचित प्रतिनिधि 888 11  
प्रतिनिधि सूची 888 27  
सौंपद 889.2 ⇨
- सौंप फूलना**  
हॉफना 245 22
- सौंप रूधना**  
स्वासावरोध होना 245 18
- सौंप रुकना**  
मरना 249 18
- सौंप रोकना**  
सौंप साधना 245 19
- सौंप लेना**  
जीवनयुक्त होना 246 10  
विश्राम करना 494 19
- सौंप साधना**  
प्राणायाम करना 245.20  
सौंप साधना 245.19 ⇨
- सौंप साधे**  
धनिहीनत 295.6
- सौंपसैरिफ**  
सौंपसैरिफ 413.18 ⇨
- सौंपसैरिफ (अँ)**  
सौंपसैरिफ 413.18
- सौंप होना**  
सौंप चलना 245.17
- सौंपा**  
आसंका 377 1  
दुबिधा 501.1  
भय 395.1  
मनोव्यथा 391.7  
सूक्ष्म छिद्र 271 13
- सौंपारिक**  
इहलौकिक 258.13  
व्यवहार कुशल 828.10  
व्यावहारिक 828.9  
संसार भ्रुंगी 363.19

### सौंपारिक जीवन

- गृहस्थ आश्रम 235.1
- सौंपारिकता**  
आसक्ति 365.1  
औपचारिकता 184.3  
व्यवहार कुशलता 828 3
- सौंपारिकता त्याग**  
विरक्ति 366.2
- सौंपारिकता वाद**  
इहलौकवाद 760 15
- सौंपारिक प्रेम**  
मानव प्रेम 368 7
- सौंपारिक**  
संस्कार विषयक 798 39  
सभ्यता विषयक 733 12
- सौंपकृतिक**  
सभ्यता विषयक 733 12
- सौंप्रथ**  
संस्थानीय 692 31
- सौंप्रथानिक**  
संस्थानीय 692 31
- सा**  
बहुज स्वर 459 7  
सादृश्य उक्ति सूची 309 26
- सा [सौंप]**  
समरूप 967 20  
समान 309 22  
सादृश्य उक्ति सूची 309 26
- साअत**  
अवसर 70.1  
घंटा 50.8  
नियत काल 39.1  
विवाह मुहूर्त 799.37  
साअत 49.2 ⇨  
साया 799.35
- साअंठिक (अँ)**  
विज्ञान सगत 307.13  
विज्ञानीय 307 11
- साअंठिस्ट (अँ)**  
विज्ञानी 307 12
- साअंस (अँ)**  
विज्ञान 307.1
- साअंसवान**  
विज्ञानी 307 12
- साअंकिल**  
साअंकिल 1071.48 ⇨
- साअंकिल आरोहण**  
साअंकिल आरोहण 1082.22 ⇨
- साअंकिल मार्ग**  
साअंकिल मार्ग 1083.15 ⇨
- साअंकिल लेन (अँ)**  
साअंकिल मार्ग 1063.15
- साअंकिल सवार**  
साअंकिल सवार 1082.23 ⇨
- साअंकिल सवारी**  
साअंकिल आरोहण 1082.22
- साअंकिल स्टैंड**  
साअंकिल स्टैंड 1089.35 ⇨

साइकिल स्टैंड (अं)	साइकिल स्टैंड 1069 35	साइकिल सवार 1082 23	साइकोलाजी (अं)	मनोविज्ञान 352 1	साइकोसिस (अं)	मनोविकार 353 1	साइक्लोन (अं)	चक्रवात 85 10	साइक्लोमीटर (अं)	चक्र मापी 958 35	साइक्लोस्टाइल	साइक्लोस्टाइल 414.8 ⇨	साइक्लोस्टाइल (अं)	साइक्लोस्टाइल 414 8	साइक्लोस्टाइल प्रति	अनुलिपि प्रकार सूची 414 6	साइज़ (अं)	आकार माप 961 1	साइट (अं)	आवासीय भूखंड 598 3	साइटेशन (अं)	प्रशसा आलेख 841 5	साइड टेबल	साइड टेबल 595 39 ⇨	साइड टेबल (अं)	साइड टेबल 595 39	साइड पाकिट	साइड पाकिट 672 3 ⇨	साइड पाकिट (अं)	साइड पाकिट 672 3	साइडवाक (अं)	सड़क पार्श्व 1064 1	साइडस्ट्रोक	साइडस्ट्रोक 483 7 ⇨	साइडस्ट्रोक (अं)	साइडस्ट्रोक 483 7	साइड हीरो (अं)	उपनायक 467 7	साइड हीरोइन (अं)	उपनायिका 467 11	साइत	घंटा 50 8	साअत 49 12	साइन (अं)	चक्र बारहवाँ भाग 960 6	घापलब 972 11	हस्ताक्षर 444.8	साइन बोर्ड (अं)	नेमप्लेट (अं) 442 15	साइगर (अं)	खतरा घटी 461 31	संकट संकेत 909.9	साइलेंसर	साइलेंसर 300.5 ⇨	साइलेंसर (अं)	साइलेंसर 300 5	साई	इसलामी साधु 790 23	ईश्वर 764 1	पति 803 5	प्रवीण व्यक्ति 303 9	प्रेमी 368 2	साधु 790 16	स्वामी 621 2	साई	अग्रिम देय 634 7	अग्रिम धन 634 8	प्रयत्नशील 489 9	बयाना 658 9	साईस	अभ्ययान चालक 1079 5	बग्घी चालक 1079.8	साउंड इंजुलेटर (अं)	ध्वनि रोधक 300 4	साउंड ऐन्सिक्रिकेशन (अं)	ध्वनि विस्तारण 300 6	साउंड-ऑन-फ़िल्म (अं)	साउंड ट्रैक 405 25	साउंड कंट्रोल (अं)	ध्वनि नियंत्रण 300 1	साउंड ट्रैक	साउंड ट्रैक 300 17 ⇨	साउंड ट्रैक 405 25 ⇨	साउंड ट्रैक (अं)	साउंड ट्रैक 300 17	साउंड ट्रैक 405 25	साउंड प्रूफ़िंग (अं)	ध्वनि रोधन 300 3	साउंड रिकार्ड (अं)	ध्वनिलेख 300 10	साउंड रिकार्डिंग (अं)	ध्वनि लेखन 300 11	साउंड वेव (अं)	ध्वनि तरंग 1040 4	साउंड थैलोसिटी (अं)	स्वन गति 1042 5	साए	साया 799 35	साकंभरी	शाकभरी 774 90	साक	शाक 111.9	साकक्ष	इच्छापूर्ण 359 18	इच्छुक 359 21	साकक्षता:	इच्छापूर्वक 359 34	साका	प्रशस्ति स्तम्भ 255 15	साकार	आयामयुक्त 964 20	प्रत्यक्ष दृष्ट 284.50	शरीरत 139.16	शरीरी 139 13	समक्ष 1021.8	साकार 967 12 ⇨	साकार ईश्वर 764 10	साकार ईश्वर	साकार ईश्वर 764 10 ⇨	साकार करना	चित्रांकन करना 404 35	साकारतः	प्रत्यक्षत 284 55	शरीरत 139 16	साकारता	आयामयुक्तता 964 2	साकारता 967 1 ⇨	साकार भक्ति	भूर्ति पूजा 751 7	साकार रूप	आकार रूप 967 5	साकारोपासना	भूर्ति पूजा 751 7	साकिन	गतिहीन 1042 12	निश्चल 1038 8	स्थित 1020 8	साक्षी	मद्य दाता 209 32	साक्षी बाला	साक्षी बाला 209 33	साक्षी बाला	साक्षी बाला 209 33 ⇨	साकृत स्थित	तिरछी चितवन 284 6	साकृति	साकार 967 12	साक्षर	साक्षर 319 10 ⇨	साक्षरता	साक्षरता 319 6 ⇨	साक्षात	प्रत्यक्षत 284 55	साक्षात ज्ञान	प्रत्यक्ष अनुभूति 263 3	साक्षात्करण	साक्षात्करण 284 3	साक्षात्कर्ता	भेटवार्ता कर्ता 436 13	साक्षात्कार	प्रत्यक्ष अवलोकन 284.3	भेट 436 4	साक्षात्कारी	भेटवार्ता कर्ता 436 13	साक्षी 876 13	साक्षाद्दृष्ट	प्रत्यक्ष दृष्ट 284 50	साक्षिता	साक्ष्य 876 12	साक्षी	ईश्वर 764.1	टेस्टामेंट 739 10	प्रत्यक्ष दर्शी 284.51	प्रत्यक्ष साक्षी 876 18	विष्णु 768.1	शिव 767.1	साक्षी 876.13 ⇨	साक्ष्य 876 12	साक्षी बनना	साक्ष्य देना 876 26	साक्षी मात्र	अहं तत्त्व 35 3	साक्ष्य	प्रत्यक्ष अवलोकन 284.3	साक्ष्य 876 12 ⇨	साक्ष्य अवलोकन	प्रत्यक्ष अवलोकन 284.3	साक्ष्य देना	साक्ष्य देना 876.26 ⇨	साक्ष्य होना	साक्ष्य देना 876.26	साख	कीर्तित्व 621 9	प्रताप 849 5	प्रतिष्ठा 849.2	विश्वसनीयता 340 2	साख्य 876 12	साखा	चक्की धुरी 580 14	साखी	साक्षी 876 13	साखू	साल 13 26	साख्य	मित्रीय 705 25	मिलनसार 696 24	साग	शाक 111.9	शाक पात 189 2	साग 201.21 ⇨	साग गोशत	साग गोशत 206.34 ⇨	सागपात	शाक 111 9	साग सब्जी 189 1	साग पालक	पालक 189 26	साग भत्ता	साग भात 202.7	साग भाजी	साग सब्जी 189 1	साग भाजी ध्यंजन	भाजी 201 16	साग भात	साग भात 202.7 ⇨	सागर	गंगा सागर 679.25	झील 18.4	तालाब 18.10	मंडार 670.3
--------------------	-----------------------	---------------------	----------------	------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------	----------------	-----------	--------------------	--------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	------------------	------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------	--------------	------------------	-----------------	------	-----------	------------	-----------	------------------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------------	------------	-----------------	------------------	----------	------------------	---------------	----------------	-----	--------------------	-------------	-----------	----------------------	--------------	-------------	--------------	-----	------------------	-----------------	------------------	-------------	------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-----	-------------	---------	---------------	-----	-----------	--------	-------------------	---------------	-----------	--------------------	------	------------------------	-------	------------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	-----------------------	---------	-------------------	--------------	---------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------	-----------	----------------	-------------	-------------------	-------	----------------	---------------	--------------	--------	------------------	-------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------	--------	--------------	--------	-----------------	----------	------------------	---------	-------------------	---------------	-------------------------	-------------	-------------------	---------------	------------------------	-------------	------------------------	-----------	--------------	------------------------	---------------	---------------	------------------------	----------	----------------	--------	-------------	-------------------	------------------------	-------------------------	--------------	-----------	-----------------	----------------	-------------	---------------------	--------------	-----------------	---------	------------------------	------------------	----------------	------------------------	--------------	-----------------------	--------------	---------------------	-----	-----------------	--------------	-----------------	-------------------	--------------	------	-------------------	------	---------------	------	-----------	-------	----------------	----------------	-----	-----------	---------------	--------------	----------	-------------------	--------	-----------	-----------------	----------	-------------	-----------	---------------	----------	-----------------	-----------------	-------------	---------	-----------------	------	------------------	----------	-------------	-------------

## सागर

**सागर**  
मद्यपान पात्र 209.38  
**सागर**  
विशाल धनकोश 630.2  
समुद्र 24 1  
सातः उपमान सूची 948.30  
**सागर कन्या**  
सील 124 9  
**सागरग**  
समुद्र यात्री 1087.18  
**सागरगा**  
गंगा नदी 20.10  
नदी 20 1  
**सागरगामी**  
नायिक 1080 21  
समुद्र यात्री 1087.18  
समुद्री व्यापारी 657 7  
**सागर देवता**  
वरुण 773 43  
**सागरधरा**  
पृथ्वी 9 1  
**सागरमति**  
बोधिसत्त्व सूची 793 16  
**सागर यात्री**  
समुद्र यात्री 1087 18  
**सागर संगम**  
नदी विलय 21 25  
**सागरता**  
पृथ्वी 9 1  
**सागरबिवा**  
पृथ्वी 9.1  
**सागरावर्त**  
चीका मुँहः खाड़ी 24 8  
**सागरिका**  
चीकी जलप्रीया 24 11  
**सागरीय**  
समुद्रीय 24.23  
**सागवान**  
सागीन 13 25  
**साग ध्वजन**  
साग 201 21  
**साग सञ्जी**  
शस्य 111.8  
साग सञ्जी 189.1 ⇨  
**साग सञ्जी सूची**  
साग सञ्जी सूची 189.4 ⇨  
**सागुवाना**  
सागुदाना 192 19 ⇨  
**सागीन**  
सागीन 13.25 ⇨  
**साग्नि प्रतिज्ञा**  
घतुम्भदी 800.25  
**साग्रह**  
आग्रहपूर्ण 349 10  
**साग्रह प्रार्थना**  
फुरियाद 350.9  
**साधारता**  
प्रधानुसारतः 795 18

**साधि**  
वक्रतः 974 24  
**साज्ञ**  
अनुकूलता 885.8  
आयुष्य 922 1  
कार्यान्वय कर्ता 505 28  
पशु सज्जा 555.24  
वाद्ययंत्र 461.11  
**साज्ञ धारणा**  
शस्त्र धारण करना 930.4  
**साज्ञन**  
ईश्वर 764 1  
पति 803.5  
प्रेमी 368 2  
सज्जन 817 7  
**साज्ञना**  
क्रमबद्ध होना 991 18  
धारण करना 1019 13  
प्रेमी 368 2  
शस्त्र धारण करना 930 4  
शोभाञ्चित करना 226 8  
**साज्ञबाज्ञ**  
पशु सज्जा 555 24  
**साज्ञबाज्ञ**  
साँठगोँठ 827 9  
**साज्ञबाज्ञ**  
सामंजस्य 702.1  
**साज्ञ सँभाल**  
पालन पोषण 720.1  
प्रबध 855 5  
रखरखाव 538 4  
व्यवस्था 893 5  
संरक्षा 908 3  
सवर्धन 979 7  
**साज्ञ सँवार**  
परिष्कार 537.1  
शृंगार 222 1  
**साज्ञ सज्जा**  
आहार्य अभिनय 464 36  
वेश 589 1  
**साज्ञ समान**  
घल संपत्ति 624 9  
**साज्ञ सामान**  
आयुष्य 922 1  
फरनीचर 595 1  
साज्ञ सामान 558.6 ⇨  
सामान 666.3  
**साज्ञिवा**  
वादक 461 2  
संगतिया 461 4  
**साज्ञिव**  
सिजदा करने वाला 751.18  
**साज्ञिवा**  
कुपरामर्श 332.2  
गुप्त परामर्श 332.4  
बख्चंत्र 827.8  
**साज्ञिबी**  
बख्चंत्र कर्ता 827.25

**साझा**  
शेयर 628 13  
सहकर्म 700.3  
साझा 621 6 ⇨  
**साझा [साझी]**  
साझे का 621.27  
**साझा (दे.)**  
अंशाधिकार 623 9  
**साझा परिवार**  
सयुक्त परिवार 726 6  
**साझाहीन स्वामित्व**  
एक स्वामित्व 621 3  
**साझी**  
साझेदार 621 8  
**साझी (दे.)**  
अंशाधिकारी 623 24  
**साझे का**  
साझे का 621.27 ⇨  
**साझेदार**  
साझेदार 621 8 ⇨  
**साझेदारी**  
साझेदारी 621.7 ⇨  
**साटन**  
साटन 580 44 ⇨  
**साटना**  
धिपकाना 1012 12  
संलग्न करना 1010 14  
**साटिन**  
साटन 580 44  
**साटी**  
छड़ी 923 3  
**साठ**  
साठ 948.66 ⇨  
**साठगोँठ**  
साँठगोँठ 827 9  
**साठनाठ**  
दिवालिया 646 19  
नष्ट 531 7  
**साठ वर्ष**  
साठ वर्ष 42.24 ⇨  
**साठवीं [साठवीं]**  
साठवीं [साठवीं] 948 102 ⇨  
**साठी**  
घान सूची 187.12  
साठवीं [साठवीं] 948 102  
**साठी**  
मलाई 196 5  
साठी 586.16 ⇨  
**साठीः अंतर्परिधान**  
साया 587 13  
**साठीः किनारी**  
किनारी 571 34  
**साठीः चुन्नट**  
साठीः चुन्नट 975.2 ⇨  
**साठीः नीचे का पाजामा**  
तहपोशी 587.10  
**साठी**  
मलाई 196.5

**साठी 586 16**  
**साठू**  
साठू 724 43  
**साठू**  
साठू 724.43 ⇨  
**साठे बी**  
डाई 949 34  
**साठे साती**  
शनि दशा 261 22  
**सात**  
सात 948.29 ⇨  
**सात आसमान**  
सात लोक 258 5  
**सातः उपमान सूची**  
सात उपमान सूची 948 30 ⇨  
**सात खंडी [सात खंडी]**  
सात खंडीय 938 57  
**सात खंडीय**  
सात खंडीय 938.57 ⇨  
**सातत्य**  
शाश्वतता 37 1  
**सात दिन**  
सप्ताह 46 1  
**सात पीध**  
कुटिलता 818 3  
छल 827 7  
तकरार 708 7  
बहानेबाजी 495 5  
**सात पाताल**  
सात पाताल 258 7 ⇨  
**सात पाताल सूची**  
सात पाताल सूची 258 8 ⇨  
**सात फेरे**  
विवाह 799 1  
सप्तपदी 800 24  
**सातभाई**  
सतबहनी घरखी 126 36  
**सात मरुत सूची**  
सात मरुत सूची 781 4 ⇨  
**सात मातृका**  
सप्त मातृका 774 69  
**सातमाला पहाड़ियाँ**  
भारत उपमहाद्वीप पर्वत सूची 17 1  
**सात लकीः माला**  
सात लकी माला 228 43 ⇨  
**सातला**  
शिकाकाई 220 26  
**सात लोक**  
सात लोक 258.5 ⇨  
**सात लोक सूची**  
सात लोक सूची 258.6 ⇨  
**सात बघन**  
विवाह 799.1  
विवाह प्रतिज्ञा 799.40  
**सातवीं [सततवीं]**  
सातवीं [सातवीं] 948.93 ⇨  
**सातवीं मनु**  
वैवस्वत मनु 788.5

सालवै आसमान पर	सहिततः 1006.3	मित्र वत्सल 705.27	साबादिल
पराकाष्ठा पर 534.16	सामंजस्य 702.1	संगतिया 461.4	सरल 817.8
सातः समुदाय	साध आना	समर्थक 885.36	साबापन
सात. समुदाय 687.9 ⇨	मिलना 389.5	सहकर्मी 707.22	सामान्यता 311.1
सात. सुर	साध कूद	सहकारी कर्मचारी 652.31	साबा मित्राज
सप्ताक 459.3	सहकूद 1086.7	सहगायक 460.30	सरल 817.8
सात सौ छंदः काव्य	साध खाना	सहयात्री 1088.2	सहज आराध्य 400.23
सतसई 446.28	साध खाना पीना 183.32	सहायता दाता 700.25	साधि
सात सौः समुदाय	साध खाना पीना	साधी [साधिन]	आरंभयुक्त 994.17
सात सौ. समुदाय 687.19 ⇨	साध खाना पीना 183.32 ⇨	सगी 696.2	साधिक
सात स्वर	साध चलना	साधी गायक	ईमानदार 815.7
सप्ताक 459.3	साध चलना 1088.14 ⇨	सहगायक 460.30	संगत 438.6
सार्ध	साध घूटना	साधीहीन	साधिक
सप्तमी 44.13	मित्रता घूटना 705.24	एकाकी 697.14	सच्चरित्र 810.5
सार्धो दिन	साध छोड़ना	साध	साधिक
प्रति दिन 1049.20	दापत्य परित्याग करना 804.20	स्वीकृति चिह्न 407.4	सरल 817.8
सार्धो स्वर राग	साध देना	सादगी	साधित
संपूर्ण राग 457.17	सगत करना 696.19	अनलकृतता 227.2	निधरा [निधरी] 1031.33
सास्व	समर्थन करना 885.22	सरलता 817.2	साधी
सास्वगुणी 762.16	सहकर्म करना 700.16	सादगी पसंद	चित्र 380.10
सात्त्विक	साध चलना 1088.14	सहज आराध्य 400.23	साधी बैठक
ईमानदार 815.7	साध न छोड़ना	सादत	बैठक सूची 485.12
निरामिष 204.4	अलग न होना 1010.16	कल्याण 710.2	सादुर्य
ब्रह्म 764.24	साध न देना	सीमाग्य 260.17	पर्यायता 426.23
ब्रह्मा 766.1	सहयोग न करना 701.4	सादतमंद	समरूपता 967.10
वास्तविक 820.23	साध न होना	कल्याणकारी 710.21	सादुर्य 309.3 ⇨
शक्तिशाली 487.20	रहित होना 1007.2	पापहीन 813.9	सादुर्य आभास
शिव 767.1	साध निभाना	सच्चरित्र 810.5	सादुर्य आभास होना
सच्चरित्र 810.5	पार्श्वघर होना 696.23	सरल 817.8	सादुर्य आभास होना 309.12 ⇨
सत्यतापूर्ण 820.20	साध चलना 1088.14	सीमाग्यशाली 260.33	सादुर्यः उक्ति सूची 309.26 ⇨
सात्त्विक अभिनय	साध पीना	सादर	सादुर्यवता
सात्त्विक अभिनय 464.27 ⇨	साध खाना पीना 185.32	पत्रांत स्तुति आदि सूची 444.42	उपमा अलंकार 454.4
सात्त्विक आहार	साध में बजाना	सत्कारपूर्वक 184.11	सादुर्य दर्शन
वैष्णव आहार 204.3	सगत करना 461.104	गम्मानपूर्वक 854.24	बिंब विधान 454.12
सात्त्विकता	साध रहना	सादर आनयन	सादुर्य विद्याना
निरामिषता 204.1	पार्श्वघर होना 696.23	समानयन 1059.13	उपमा देना 309.14
सात्त्विक्यता	साध चलना 1088.14	सादर उपस्थित होना	सादुर्यपूर्ण
मित्रतापूर्ण 705.26	साध लगाना	सादर उपस्थिति होना 1021.7 ⇨	सदुर्य 309.20
सात्यवत	सलग्न करना 1010.14	सादर उपस्थिति	सादुर्य वर्णन
वेद व्यास 789.21	साध साध	सादर उपस्थिति 1021.3 ⇨	उपमा 309.7
सात्यवतीय	पार्श्वघरत 696.28	सादा	सादुर्य होना
वेद व्यास 789.21	संग संग 696.26	असुंदर 156.3	सादुर्य होना 309.11 ⇨
सात्वत	संलग्नत 1010.26	पतंग डोर. सादा 569.12	सादुर्यवाभासित
यादव 771.30	समकाल में 59.4	रोमन 413.16	सादुर्यवाभासित 309.21 ⇨
सात्त्विक	समूहतः 690.14	सादा [सादी]	सादे कपड़े
प्राकृतिक 762.10	सामजस्यपूर्वक 702.8	अकाव्यात्मक 451.30	अनीपचारिक वेश 589.15
साध	साध साध चलना	अनलंकृत 227.5	सादेश
अनुप्रवाह 1096.16	पार्श्वघर होना 696.23	छद्महीन 822.30	आज्ञापूर्वक 347.21
उपस्थिति 1021.2	साध होना	क्रि. हीन 222.20	साधत
घनिष्ठता 704.13	पार्श्वघर होना 696.23	सरल 817.8	साधु 790.16
निकटता 31.1	मिलना 389.5	सहज आराध्य 400.23	साध
प्रिय संयोग 389.3	सहित होना 1006.1	सामान्य 311.3	इच्छा 359.1
मिलन 389.1	साधिन	सूफियाना [सूफियानी] 289.35	मजत 361.3
विवाह 799.1	स्त्री मित्र 705.3	साबाकार	महात्मा 790.7
संगति 696.1	साधी	पच्चीकार 406.33	साध 798.7 ⇨
संलग्नतः 1010.26	जोड़ीदार 687.24	सादा कूद	
सहयात्रा 1088.1	पार्श्वघर 696.18	साधारण कारावास 868.16	
सहित 1006.2	पुरुष मित्र 705.2		

## साधक

### साधक

अनुसंधान कर्ता 307 16	जीव प्रशिक्षण करना 555.30
अभिमंत्रण कर्ता 758.7	टोना करना 759 16
अभ्यास कर्ता 303 20	तपस्या 756.21
ओझा 759 11	परिशीलन 321.26
कर्तव्य पालक 895.12	पूजा 751.1
कर्ता 505.23	प्रशिक्षित करना 321.33
कार्य सभापक 522 5	प्रसन्न करना 381 5
कार्यान्वय कर्ता 505 28	योगाभ्यास 756 2
तपस्वी 789 14	लक्ष्य अभ्यास 931 8
पूजक 751.3	लक्ष्य साधना 931.15
प्रवीण 303.22	वशाधीन करना 901 6
योगी 758.3	वशीकरण करना 758.36
शिव 787 1	विशोधित करना 219 6
साधक 303.21 ⇨	साधना 303.7 ⇨
साधु 790 16	स्वर साधन 460 9
<b>साधक [साधिका]</b>	<b>साधना करना</b>
साधक 303.21	अभ्यास करना 303 11
<b>साधकता</b>	साधना कराना
योग शक्ति 758.17	अभ्यास करवाना 303.13
<b>साधन</b>	साधना कर्ता
अग 139 8	साधक 303 21
अभिमंत्रण 758.6	<b>साधनी</b>
उपाय 517 3	मिस्तर 559 28
कार्यान्वयन 505 5	<b>साधनीय</b>
चिकित्सन 171.8	कार्यान्वयनीय 505 25
घातु दहन 108 3	<b>साधर्म्य</b>
घातु शोधन 219.4	सादृश्य 309.3
प्रसन्न 381 2	<b>साधार</b>
वशीकरण 758 22	तर्कपूर्ण 325 21
संपत्ति 624.1	साधार 1019.15 ⇨
सम्बोधन 367.2	<b>साधार अनुमान</b>
साधन 558.1 ⇨	आकलन 947.5
<b>साधन (दे.)</b>	<b>साधारण</b>
सागान 666 3	अनलंकृत 227 5
<b>साधन संपन्न</b>	अविद्वान 320 4
समृद्ध 626.11	असुंदर 158.3
साधन संपन्न 558.19 ⇨	इहलौकिक 258 13
<b>साधन संपन्नता</b>	गौरवहीन 850.6
साधन संपन्नता 558.2 ⇨	नगण्य 853 10
<b>साधनहीन</b>	मध्यम 978.6
अभावग्रस्त 627 17	मानव अरथित 528 9
साधनहीन 558.20 ⇨	व्यावहारिक 828 9
<b>साधनहीन (दे.)</b>	सामान्य 311.3
असहाय 701.8	सामूहिक 690 13
<b>साधनहीनता:</b>	सुलभ 943.10
असहायता: 701.10	<b>साधारण आहार</b>
<b>साधनहीनता</b>	साधारण आहार 197 10 ⇨
साधनहीनता 558.3 ⇨	<b>साधारण कारावास</b>
<b>साधनहीनता (दे.)</b>	साधारण कारावास 868.16 ⇨
असहायता 701 2	<b>साधारण जन</b>
<b>साधना</b>	धार्मिक जन साधारण 743.1
अति परिश्रम 493.3	साधारण जन 728.12 ⇨
अध्यवसाय 489 4	<b>साधारणतः</b>
अभ्यास 303.5	असतन 947.33
अभ्यास करना 303.11	प्रायः 73.7
अभ्यास करवाना 303.13	<b>साधारणतया</b>
कार्यान्वयन करना 505.12	असतन 947.33

### साधारणता

अनलंकृतता 227 2	योगी 756.3
अविद्वता 320.1	विशुद्ध 219 7
गौरवहीनता 850.2	शिष्ट 733.18
नगण्यता 853.3	सगत 438.6
सामान्यता 311.1	संन्यासी 790 11
<b>साधारण धर्म</b>	साधु 790.16 ⇨
उपमा अलंकार: अंग सूची 454 5	<b>साधु [साधुनी]</b>
उपमा धर्म 454 6	साधक 303 21
<b>साधारण निकाय</b>	<b>साधु [साधी]</b>
साधारण सना 692 28	साधक 303.21
<b>साधारण व्याज</b>	<b>साधु: आसन</b>
साधारण व्याज 633.12 ⇨	संत. आसन 595.12
<b>साधारण सभा</b>	<b>साधु: चोला</b>
साधारण सभा 692 28 ⇨	साधु चोला 585 23 ⇨
<b>साधारण साङ्ग</b>	<b>साधु: जूता</b>
औसत साङ्ग 961 6	साधु जूता 588.25 ⇨
<b>साधारणीकरण</b>	<b>साधुता</b>
साधारणीकरण 352 14 ⇨	ईमानदारी 815.2
साधारणीकरण 399 16 ⇨	धर्मशीलता 735.2
<b>साधारणीकरण भावकत्व क्रिया</b>	घातु खरापन 98 4
साधारणीकरण 399.16	पापहीनता 813 1
<b>साधारता</b>	विवाह निष्ठा 805.1
साधारता 1019.3 ⇨	विशुद्धता 219 2
<b>साधारित</b>	सच्चरित्रता 810 2
आधारित 1019.17	सज्जनता 817 1
<b>साधिका</b>	सत्यता 820 2
पूजारिन 744.8	<b>साधु: देय उपज</b>
योगिनी 756 4	साधु देय उपज 647.29 ⇨
सिद्ध स्त्री 790.31	<b>साधु देवी</b>
<b>साधिकार</b>	सास 724 7
अधिकारपूर्ण 897.14	<b>साधुधी</b>
अधिकारपूर्वक 897 20	सुस्वभावी 837.10
स्वजन भावनापूर्ण 725.6	<b>साधुनी</b>
<b>साधित</b>	साधु स्त्री 790 17
अभिमंत्रित 758 40	साधु: ब्राह्मण ग्रंथ
अभ्यस्त 303.19	आरण्यक 740.19
उगाहा [उगाही] 634 24	<b>साधु भवन</b>
कार्यान्वित 505 27	आश्रम 745.2
प्रमाणित 327.9	<b>साधु भाव</b>
भुगतान कृत 634.25	कल्याण कामना 710 4
मनाया [मनाई] 374.19	दयालुता 834.4
वशाधीन 901.9	<b>साधु मंडली</b>
वशीकृत 758 41	साधु मंडली 691.6 ⇨
संचालित (शस्त्र) 930.18	<b>साधु महात्मा</b>
समाप्त (कार्य) 522.4	साधु 790.16
सिद्ध 877.22	साधु सन्यासी 790.1
<b>-साधी</b>	<b>साधुवाद</b>
साधक 303.21	साधुवाद 841.20 ⇨
<b>साधु</b>	<b>साधुवाद करना</b>
आभूषण व्यापारी 566 11	साधुवाद करना 841.27 ⇨
उत्तम 313.11	<b>साधुवाद देना</b>
उत्तम 313.13	साधुवाद करना 841.27
तपस्वी 789.14	<b>साधुवादी</b>
धर्म शिक्षक 742.21	साधुवादी 841.39 ⇨
परिपूर्ण 313 14	<b>साधु वृत्त</b>
प्रिय 369.7	समवतुलाक्षर 976.17
मुनि 789.15	<b>साधु वेश</b>
	साधु वेश 589.10 ⇨

साधु संग  
सत्संग 749.21  
साधु संत  
ऋषि मुनि 789.1  
धर्म उपदेशक 742.22  
धर्म शिक्षक 742.21  
साधु 790.16  
साधु सन्यासी 790.1  
साधु संत आश्रम  
साधु संत आश्रम 745.5 ⇨  
साधु सन्यासी  
साधु सन्यासी 790.1 ⇨  
साधु सन्यासी (दे.)  
धर्म प्रचारक 742.28  
साधु साधु  
शाबाशी उद्गार सूची 841.40  
साधु सिद्धि  
साधु सिद्धि 790.29 ⇨  
।धु स्त्री  
साधु स्त्री 790.17 ⇨  
।धु होना  
सन्यास लेना 233.9  
।धु  
साधु 790.16  
।ध्य  
उपयोगी 524.18  
चिकित्स्य 171.20  
प्रतिपाद्य 326.15  
साध्य 518.16 ⇨  
।ध्यता  
क्षमता 487.7  
व्यावहारिकता 828.2  
सभावना 68.1  
साध्यता 518.4 ⇨  
।ध्य पक्ष  
पूर्व पक्ष 324.11  
।ध्यः माता  
साध्या 787.26  
।ध्य साधन  
तर्कधार 325.7  
।ध्य होना  
साध्य होना 518.13 ⇨  
।ध्या  
साध्या 787.26 ⇨  
।ध्याधार  
धर्मशीलता 735.2  
शिष्टता 733.7  
।धी  
ऋषि स्त्री 789.24  
पतिव्रता 805.6  
योगिनी 758.4  
सच्चरित्रा 810.6  
साधु स्त्री 790.17  
।धी ब्रत  
पतिव्रत 805.4  
।नंद  
आनंदपूर्ण 382.16  
उत्सवपूर्ण 56.9

सान  
सान 559.34 ⇨  
सान पत्थर 559.35  
सान करने वाला  
सान करने वाला 564.8 ⇨  
सान गुमान  
आकलन 947.5  
सुराग 867.1  
सान चढ़ाना  
सान धरना 564.12  
सान धरना  
सान धरना 564.12 ⇨  
सान धराई  
सान धराई 564.7 ⇨  
सानना  
आरोप लगाना 875.22  
मॉडना 195.46  
लीपना 292.11  
सानः पत्थर  
कोरडम 92.7  
सान पत्थर 559.35 ⇨  
सा नि धा पा  
अवरोह क्रम 991.4  
सानी  
अक्षाय कील 1077.14  
सदृश्य 309.20  
समकक्ष 851.5  
समान (प्रतियोगी) 707.10  
सानी 556.2 ⇨  
सानीः नौद  
सानी नौद 556.3 ⇨  
सानु  
छोर 1000.3  
सानुकूल  
सगत 438.6  
सानुकूलता  
अनुकूलता 885.8  
सामंजस्य 702.1  
सानुग  
अनुगामीयुक्त 346.7  
सानुगामी  
अनुगामीयुक्त 346.7  
सानुपातता  
सुडीलता 155.2  
सानुपातिक  
सुडील 155.4  
सानुबंध  
परिणामयुक्त 510.10  
सानुभव  
अनुमदी 303.17  
सानुभव बपुर  
अति अनुमदी 303.18  
सानुमति नागा  
अवकाश अनुमति 494.8  
सानुधिय  
उपस्थिति 1021.2  
निकटता 31.1

सापत्न  
सीतेला [सीतेली] 717.14  
सीतेले भाई बहन 723.21  
सापत्नेय  
सीतेला [सीतेली] 717.14  
सापत्न्य  
शत्रुता 706.1  
सीतिया डाह 803.10  
सीतेला भाई 723.22  
सापत्न्यक  
प्रतिद्विदिता 707.1  
सीतिया डाह 803.10  
सापवाद  
अपवादत 879.25  
अपवादपूर्ण 879.22  
सापेक्ष  
सापेक्ष 309.18 ⇨  
सुडील 155.4  
सापेक्षतः  
सापेक्षतः 309.24 ⇨  
सापेक्षता  
सापेक्षता 309.2 ⇨  
सापेक्षता सिद्धांत 964.17  
सापेक्षता सिद्धांत  
सापेक्षता सिद्धांत 964.17 ⇨  
सापेक्षा  
प्रतीक्षापूर्ण 1057.8  
साप्तापदीन  
सप्तपदी 800.24  
साप्ताहिक  
साप्ताहिक 46.17 ⇨  
साप्ताहिक 71.16 ⇨  
साप्ताहिक बाजार  
साप्ताहिक बाजार 663.7 ⇨  
साफ  
अनावृत 822.29  
अपराध मुक्त 869.9  
अपराधहीन 861.16  
उज्ज्वल 218.37  
घुंघरील 106.27  
परिपूर्ण 313.14  
परिष्कृत 537.9  
पापहीन 813.9  
प्रक्षालित 220.40  
भ्रमहीन 340.21  
मेघहीन 55.15  
रिक्त 1005.7  
समतल 986.9  
सुरक्षिततः 908.29  
सुलझा [सुलझी] 574.15  
सुलिखित 412.46  
स्पष्ट 822.20  
स्पष्टार्थी 426.33  
स्वच्छ 218.33  
साफ इनकार  
स्पष्ट अस्वीकृति 338.2  
साफ कर जाना  
पूरा खा जाना 181.34

साफ करना  
उज्ज्वल करना 218.32  
मारना 251.18  
विशोधित करना 219.6  
साफगो  
स्पष्ट यत्ना 430.19  
साफगोई  
स्पष्ट कथन 430.3  
साफ जवाब  
स्पष्ट अस्वीकृति 338.2  
साफ दिखना  
स्पष्ट होना 822.13  
साफदिल  
ईमानदार 815.7  
साफदिली  
सदाशयता 817.4  
साफ न बोलना  
अस्पष्ट उच्चारण करना 299.19  
साफ बात  
स्पष्टोक्ति 430.4  
साफ बात कहना  
स्पष्ट कथन करना 430.12  
साफ साफ  
स्पष्टतः 822.32  
साफ साफ कहना  
स्पष्ट कथन करना 430.12  
साफ साफ लिखना  
सुलेखन करना 412.38  
साफ सुधरा [साफ सुधरी]  
प्रक्षालित 220.40  
सुलिखित 412.46  
स्वच्छ 218.33  
साफ होना  
नष्ट होना 531.4  
साफा  
पगड़ी 584.13  
वर-पगड़ी 802.25  
साबका  
संपर्क 703.5  
साबका पड़ना  
साबका पड़ना 703.9 ⇨  
साबर  
साबर 582.20 ⇨  
साबल  
लीवर 1062.3  
साबित  
प्रमाणित 327.9  
बलिष्ठ 160.10  
सिद्ध 877.22  
साबितकदम  
अविचल 500.15  
साबित करना  
प्रमाणित करना 327.7  
सत्य सिद्ध करना 820.18  
सिद्ध करना 877.18  
साबिर  
संतोषशील 360.19  
सहन कर्ता 872.19

## साबुत

सहिष्णु 872 16  
साबुत  
अभंजित 539.13  
अविभक्त 698.11  
पूर्णांकिक 940 13  
सर्वांग 153 14  
साबुत घनाः भाजी  
छोले 201 13  
साबुत घनाः भूजी  
छोले 201 13  
साबुत  
साबुत 220.28 ⇨  
साबुदाना  
सागुदाना 192 19  
साभा  
आमायुक्त (रत्न) 98 11  
साभिप्राय  
अर्धयुक्त 426.27  
उद्देश्यपूर्वक 508 12  
प्रयोजनतः 508.11  
प्रयोजनपूर्ण 508.6  
साभिभवकता  
सनाथता 719.2  
साभिमान  
अभिमानपूर्वक 858.14  
साभिलाषा  
इच्छापूर्ण 359.18  
सामंजस्य  
अनुकूलता 885 8  
सामंजस्य 702.1 ⇨  
सुधीलता 155 2  
सौमनस्य 705 18  
स्वर सामंजस्य 460 15  
सामंजस्य न होना  
सामंजस्य न होना 701.6 ⇨  
सामंजस्यपूर्ण  
सामंजस्यपूर्ण 702.6 ⇨  
स्वर सामंजस्यपूर्ण 460.45  
सामंजस्यपूर्वक  
सामंजस्यपूर्वक 702.8 ⇨  
सामंजस्य स्थापना  
सामंजस्य स्थापना 702.2 ⇨  
सामंजस्यहीन  
सामंजस्यहीन 701 9 ⇨  
सामंजस्यहीनता  
असामंजस्य 701 3  
तालहीनता 458 26  
वैमनस्य 706 10  
सामंजस्यहीन होना  
सामंजस्य न होना 701.6  
सामंजस्य होना  
सामंजस्य होना 702.4 ⇨  
सामन्त  
करदाता राजा 882.7  
बड़ा जमींदार 553.15  
योद्धा 934.15  
सामंत 882.32 ⇨  
सेनापति 935.1

सामंत तंत्र  
सामंत तंत्र 881.20 ⇨  
सामंत दर्जा  
उच्च वर्ग 688.8  
सामंतवाद  
सामंतवाद 884 11 ⇨  
सामंतवादी राज्य  
सामंत तंत्र 881.20  
सामंतशाही  
सामंतवाद 884 11  
सामंतशाही राज्य  
सामंत तंत्र 881.20  
साम  
गीत 451 19-  
तृप्ति प्रदान 361 6  
नग्न व्यवहार 830 3  
नीति चतुष्टय सूची 819 3  
पूजा गीत 749 25  
पूजा गीत सूची 749 26  
प्रशंसा गीत 841 6  
प्रिय वचन 431 2  
मिष्ट भाषण 431.3  
वैदिक छंद 452 6  
साम नीति 819 4  
साम मंत्र 741 11  
सामवेद 740 34  
स्तोत्र 741 16  
सामक  
सान. पत्थर 559 35  
सामकारी  
प्रसन्न कर्ता 381 8  
मंत्रार्थि 789 9  
मिष्टभाषी 431 8  
सात्वद 393 22  
सामग  
साम गायक 741 13  
साम गान  
साम गायन 741 12  
सामगानप्रिय  
शिव 767.1  
साम गायक  
साम गायक 741.13 ⇨  
सामगायन  
विष्णु 768 1  
साम गायन  
साम गायन 741 12 ⇨  
सामगायी  
साम गायक 741 13  
साम गीत  
साम गायन 741.12  
सामग्री  
पत्र पत्रिकाः सामग्री 445.6  
पाठ 412.31  
मंच सामग्री 471.19  
मुद्रण पांडुलिपि 412 30  
रसद 656.10  
साप्र सामान 558.6  
सामान 666.3

सामग्री संपन्न  
सामानयुक्त 666.11  
सामन  
सामन 125.13 ⇨  
सामन (अं)  
सामन 125 13  
सामना  
अप्रभाग 994.9  
अभिमुखता 1023 1  
आमना सामना 915.3  
प्रतियोगिता 707.2  
प्रतिरोध 915.1  
गेट 436.4  
मुठभेड़ 915 2  
वक्ष 146.1  
संपर्क 703 5  
समक्षता 1021 1  
समान प्रतियोगिता 707 3  
सामना पल्ला 585 72  
सीध 974 9  
सामना करना  
प्रतिरोध करना 915 4  
सामनाः पल्ला  
सामनाः पल्ला 585.72 ⇨  
सामना होना  
आमना सामना होना 915 9  
सामनी  
गला रस्सी 555 15  
रस्सी सूची 570 6  
साम नीति  
तुष्टीकरण नीति 374.8  
साम नीति 819 4 ⇨  
सामने  
अगुप्ततः 822 34  
अग्रतः 994 22  
अभिमुख 1023 9  
अभिमुखतः 1023.15  
आगे आगे 1096 14  
आमने सामने 915 13  
आसन्नतः 67 12  
उपस्थिति में 1021 12  
तुलना में 309 23  
निकट भविष्य में 36 35  
निकट मे 31 9  
प्रकटतः 822.33  
प्रतिद्विदितापूर्वक 707.15  
प्रत्यक्षतः 284.55  
विरुद्धतः 886 8  
समक्षत 1021 11  
सीधे 1098.32  
सामने आना  
उपस्थित होना 1021.6  
दर्शन देना 749 49  
सामने करना  
आगे करना 994 13  
सामने का शीशा  
विडस्त्रीन 85.32

सामने की दिशा  
सीध 974.9  
सामने न आना  
परदा करना 591 8  
सामने पड़ना  
आमना सामना होना 915 9  
सामने रखना  
निवेदन करना 350 10  
सामने से  
अभिमुखतः 1023 15  
सामने होना  
आगे होना 994 12  
समक्ष होना 1021 5  
सामप्रिय  
शिव 767 1  
साम मंत्र  
साम मंत्र 741.11 ⇨  
सामयिक  
अवसरानुकूल 70 14  
अवसरीय 70 13  
ऋतु कालीन 51 16  
कालीन 36 16  
वर्तमान कालीन 36 21  
समयानुसार 61 5  
सर्वसहमत 337 21  
सामयिकता  
अवसरानुकूलता 70 2  
नश्वरता 38.2  
समयानुसारता 61 1  
सामयोन  
ब्रह्मा 766 1  
सामरिक  
यौद्धिक 905 33  
सामरिकता  
युद्ध प्रेम 907 4  
सामर्थ्य  
अल्पमूल्यता 664 12  
सामर्थी  
शक्तिशाली 487 20  
सक्षम 487.25  
सामर्थ्य  
अधिकार 897 1  
क्षमता 487 7  
प्रहार सहन शक्ति 920 2  
योग्यता 303 1  
सामर्थ्य में न होना  
अधिकार न होना 898 2  
सामर्थ्यवान  
शक्तिशाली 487.20  
सक्षम 487 25  
सामर्थ्यवान [सामर्थ्यवती]  
सक्षम 487.25  
सामर्थ्यशाली [सामर्थ्यशालिनी]  
सक्षम 487.25  
सामर्थ्यहीन  
अधिकारहीन 898.3  
अबलिष्ठ 159.12 \*  
क्षमताहीन 488.15



सामर्थ्यहीनता  
क्षमताहीनता 488.4  
सामवायिक  
दलीय 891.7  
सामवेद  
चार वेद सूची 740.28  
तीन वेद सूची 740.26  
सामवेद 740.34 ⇨  
सामवेद: आरण्यक  
छांदोग्य आरण्यक 740.21  
सामवेद: उपवेद  
संगीत शास्त्र 457.2  
साम सावित्री मंत्र  
मंत्र सूची 741.4  
सामहिं  
सीधे 1098.32  
सामाजिक  
कला उपभोक्ता 399.2  
कला प्रेमी 400.17  
परिषद सदस्य 889.8  
बहिरभिमुखी 837.15  
मिलनसार 896.24  
समाजीय 688.14  
सामूहिक 690.13  
सामाजिक अशांति  
उपद्रवग्रस्तता 903.2  
सामाजिकता  
बहिरभिमुखता 837.6  
मिलनसारिता 696.8  
सामाजिकता 688.2 ⇨  
सामाजिक भावना  
सामाजिकता 688.2  
सामाजिक मान्यता  
प्रतिष्ठा 849.2  
सामाजिक शांति  
सुराशितता 893.3  
सामान  
असबाब 1087.31  
क्रीत सामान 680.4  
माल भार 1061.7  
रसद 856.10  
संघटक 545.3  
सामान 1061.6 ⇨  
सामान 686.3 ⇨  
सामान गौदाम  
लगेज रूम 1089.7  
सामान बैधार्ह  
पैकिंग 1014.1  
सामान भार  
माल भार 1061.7  
सामानयुक्त  
सामानयुक्त 666.11 ⇨  
सामानहीन  
सामानहीन 666.12 ⇨  
सामान्य  
अनलंकृत 227.5  
औसत राशीय 947.25  
गौरवहीन 850.8

नगण्य 853.10  
मध्यम 978.6  
सामान्य 311.3 ⇨  
सामूहिक 690.13  
स्थिरचित्त 355.6  
सामान्य जन  
साधारण जन 728.12  
सामान्य ज्ञान  
व्यावहारिक ज्ञान 305.11  
सामान्यतः  
औसतन 947.33  
प्रायः 73.7  
सामान्यतया  
प्रायः 73.7  
सामान्यता  
अधिकता 944.1  
अनलंकृतता 227.2  
औसत राशि 947.11  
कोटि 936.1  
गौरवहीनता 850.2  
व्यक्तित्वहीनता 836.2  
सादृश्य 309.3  
सामान्यता 311.1 ⇨  
स्थिरचित्तता 355.2  
सामान्य न होना  
सामान्य न होना 312.10 ⇨  
सामान्य विभाजक  
सामान्य विभाजक 955.16 ⇨  
सामान्य विश्राम  
ताल लय 458.37  
सामान्य से विशिष्ट का निगमन  
निगमन 325.13  
सामान्य होना  
सामान्य होना 311.2 ⇨  
सामान्या नायिका  
सामान्या नायिका 456.15 ⇨  
सामान्यीकरण  
आगम तर्कण 325.12  
सामासिक  
संयुक्त 1010.22  
सम्मिश्रित 1008.26  
सहकारी (संपत्ति) 621.28  
सामूहिक 690.13  
सामासिकता  
संयुक्तता 1010.8  
सम्मिश्रितता 1008.13  
सामिष  
मासयुक्त 132.18  
सामिष 205.3 ⇨  
सामिष अंडा  
सामिष अंडा 206.4 ⇨  
सामिष आहार  
सामिष आहार 205.2 ⇨  
सामिष खाद्य  
खाद्य मांस 206.11  
सामिषता  
सामिषता 205.1 ⇨

सामिष भुलाव  
विरियानी 202.4  
सामिषाहारी  
सामिषाहारी 205.4 ⇨  
सामी  
अक्षाय कील 1077.14  
सामीधी  
स्तोत्र 741.16  
सामीष्य  
उपस्थिति 1021.2  
घनिष्ठता 704.13  
घनिष्ठता 704.13  
निकटता 31.1  
सटापन 31.2  
सामुदायिक  
जनता विषयक 883.9  
पंचायती 892.12  
सहकारी (संपत्ति) 621.28  
सामूहिक 690.13  
सामुदायिकता  
सामूहिकता 690.2  
सामुद्ग  
गोल डिब्बा 676.2  
सामुद्र  
नारियल 13.11  
नाविक 1080.21  
नाविकीय 1080.40  
समुद्रीय 24.23  
समुद्री व्यापारी 657.7  
सामुद्रिक  
समुद्री नमक 279.7  
सामुद्रज्ञ  
अंगविद्य 261.45  
सामुद्रिक  
अंगविद्य 261.45  
जलपक्षी सूची 126.7  
नाविक 1080.21  
समुद्रीय 24.23  
समुद्री व्यापारी 657.7  
सामुद्रिक चिह्न  
अंग चिह्न 261.35  
सामुद्रिक विद्या  
अंग विद्या 261.34  
सामुद्रिक विद्या ज्ञाता  
अंगविद्य 261.45  
सामुद्रिक शास्त्र  
अंग विद्या 261.34  
सामुरार्ह  
जादूगर 474.11  
सामुरी  
जादू 474.2  
जादूगरनी 474.12  
सामूर्ह  
सीधे 1098.32  
सामूहिक  
जनता विषयक 883.9  
दलीय 691.7  
पंचायती 892.12

राष्ट्रीयकृत 635.19  
सहकारी (संपत्ति) 621.28  
सामूहिक 690.13 ⇨  
सामूहिक उक्तान  
दल उक्तान 1081.15  
सामूहिक ज्ञान  
जातीय ज्ञान 305.10  
सामूहिकता  
समूहता: 690.14  
सामूहिकता  
सामूहिकता 690.2 ⇨  
सामूहिक नीधी  
गण निधि 628.6  
सामूहिक पलायन  
भगदक 916.8  
सामूहिक भूमि  
प्राप्त भूमि 552.2  
सामूहिक रोग  
महामारी 163.7  
सामूहिक रील  
सम्पीकरण 733.1  
सामूहिक इत्य  
मारकाट 905.25  
सामूहिकीकरण  
राष्ट्रीयकरण 635.3  
सामोव  
क्रीडापूर्वक 469.17  
सुगंधपूर्ण 273.15  
साम्नाय  
अनपवाद 879.13  
साम्नायतः  
अपवादहीनतः 879.26  
साम्नायता  
अपवादहीनता 879.14  
साम्नायी  
अपवादहीन 879.23  
साम्नाय  
सर्व सहमति 337.4  
साम्नायी  
त्रिसंध्यस्पृश तिथि 44.6  
साम्नाय  
अभिमुखता 1023.1  
समकता 1021.1  
साम्य  
अनुकूलता 885.8  
उपमा अलंकार 454.4  
संगतता 438.1  
सादृश्य 309.3  
सामंजस्य 702.1  
सौमनस्य 705.18  
साम्य तंत्र  
जनवादी गणतंत्र 881.17  
साम्यवाद  
साम्यवाद 884.19 ⇨  
साम्यवादी तंत्र  
जनवादी गणतंत्र 881.17  
साम्य स्थापना: गुण  
उपमा धर्म 454.8

## साम्राज्य

साम्राज्य  
 प्रताप क्षेत्र 849.6  
 प्रभु सत्ता 899.2  
 साम्राज्य 881.10 ⇨  
 साम्राज्यवाद  
 उपनिवेश वाद 884.13  
 साम्राज्यवाद 884.12 ⇨  
 सार्य  
 सार्यकाल 47.13  
 सार्यकाल में 47.22  
 सार्यकाल  
 त्रिसंघ्या सूची 47.3  
 पशु बलि समय 754.9  
 सार्यकाल 47.13 ⇨  
 सार्यकाल में 47.22  
 सार्यकाल (दे.)  
 दिन: चौथा पहर 49.6  
 सूर्यास्त 5.11  
 सार्यकाल: अंतिम क्षण  
 सार्यकाल: अंतिम क्षण 47.14 ⇨  
 सार्यकाल: आहार  
 साध्य आहार 199.4  
 सार्यकाल में  
 सार्यकाल में 47.22 ⇨  
 सार्यकाल होना  
 सार्यकाल होना 47.18 ⇨  
 सार्यकालीन  
 सार्यकालीन 47.20 ⇨  
 सार्यकालीन अर्धप्रकाश  
 सार्यकालीन अर्धप्रकाश 287.12 ⇨  
 सार्यकालीन शुक्र  
 सार्यकालीन शुक्र 7.11 ⇨  
 सार्यतन  
 सार्यकालीन 47.20  
 सार्य प्राप्त:  
 पूरे दिन 1049.21  
 सायक  
 खड्ग 924.3  
 बाण 926.16  
 सरकंडा 597.11  
 सायत  
 विवाह मुहूर्त 799.37  
 साअत 49.12  
 साया 799.35  
 सायन (अं)  
 मुद्रण नील 289.52  
 सायन यंत्र  
 सायन यंत्र 758.27 ⇨  
 सायबान  
 शूड 870.16  
 सायबान 815.3 ⇨  
 सायम  
 रोजादार 748.8  
 साब समाप्त होना  
 साया समाप्त होना 799.54  
 साया  
 छाया 286.5  
 परछाई 286.8

पीछा 1096.3  
 प्रभाव 511.1  
 भूत बाधा 759.7  
 शरण 910.4  
 साया 587.13 ⇨  
 साया 799.35 ⇨  
 स्कर्ट 586.13  
 साया आरंभ होना  
 साया आरंभ होना 799.53 ⇨  
 सायावार  
 छायादार 286.18  
 साया निकालना  
 विवाह दिवस निश्चित करना 799.52  
 साया पड़ना  
 भूतबाधा होना 759.17  
 सायाम  
 आयामयुक्त 964.20  
 साकार 967.12  
 सायामता  
 आयामयुक्तता 964.2  
 साकारता 967.1  
 सायाम स्थान  
 आंतरिक स्थान 33.5  
 सायास  
 परिश्रमपूर्वक 493.14  
 प्रयत्नपूर्वक 489.11  
 साया समाप्त होना  
 साया समाप्त होना 799.54 ⇨  
 सायिक।  
 कृपाण 924.1  
 सायुज्य  
 एकाकारता 967.3  
 नीर क्षीर मिश्रण 1008.3  
 संयुति 1010.7  
 समानता 309.5  
 सारंग  
 कमल 14.4  
 कामदेव 773.12  
 केश 137.1  
 कोयल 126.21  
 चंद्रमा 8.2  
 घितकबरा हिरन 127.44  
 धनुष 926.8  
 मेघ 55.1  
 मोर 126.88  
 राग रागिनी सूची 457.24  
 राजहंस 126.78  
 वस्त्र 579.1  
 विष्णु: धनुष 926.11  
 शिव 767.1  
 सर्प 123.10  
 सारंगी 461.86  
 हल 583.8  
 हिरन 127.42  
 सारंगधर  
 धनुषधारी 930.13  
 विष्णु 768.1

सारंगपाणि  
 विष्णु 768.1  
 सारंग  
 नौका सूची 1072.3  
 राग रागिनी सूची 457.24  
 सारगा 1072.25 ⇨  
 सारंगिक  
 पक्षी आखेटक 252.11  
 सारंगिका  
 सारंगी 461.86  
 सारंगिया  
 सारंगी वादक 461.87  
 सारंगी  
 धनुषधारी 930.13  
 सारंगी 461.86 ⇨  
 सारंगी वादक  
 सारंगी वादक 461.87 ⇨  
 सारंगभ  
 आरभयुक्त 994.17  
 सार  
 अर्क 84.13  
 आसव 84.15  
 निर्यास 84.7  
 निष्कर्ष 84.1  
 परिणाम 510.1  
 पूर्णाशतः 940.15  
 मयन 602.7  
 मज्जा 132.3  
 मलाई 196.5  
 मूल तथ्य 820.16  
 शक्ति 487.1  
 -सार  
 सहितः प्रत्यय सूची 1006.5  
 सार  
 सार 84.16 ⇨  
 सारांश 449.12  
 -सार (जैसे: चित्रसार)  
 संग्रहालय 669.8  
 सार (दे.)  
 सत 176.26  
 सार अर्थ  
 सारांश 449.12  
 सारक  
 जमालगोटा 216.9  
 सार कथक  
 सारांश कर्ता 449.31  
 सार कथन  
 सारांश 449.13  
 सारखा [सारखी]  
 सदृश्य 309.20  
 सार गर्भित  
 सारपूर्ण 84.19  
 सारग्राही  
 सारग्राही 301.32 ⇨  
 सारजेंट  
 सार्जेंट 935.17  
 सारण  
 आनयन 1053.1

सारणी  
 छोटी नदी 20.4  
 धारा 21.14  
 सड़क 1063.33  
 सारणी 993.10 ⇨  
 सूची 993.1  
 सारतः  
 बलिष्ठतः 160.16  
 सारांशतः 449.33  
 सार तत्व  
 सार 84.16  
 सारधि  
 कृष्ण 771.1  
 सारधी 1079.10  
 सारधी  
 कृष्ण 771.1  
 नेता 346.2  
 रथ आरूढ़ 1082.32  
 संचालक 655.16  
 सहायत्री 1088.2  
 सहायता दाता 700.25  
 सारधी 1079.10 ⇨  
 सारधी (दे.)  
 जोत यान चालक 1079.4  
 सारधी कर्म  
 यान चालन 1079.2  
 सारधी नगर  
 ट्रांसपोर्ट नगर 1069.2  
 सारथ्य  
 यान आरोहण 1082.16  
 यान चालन 1079.2  
 संचालन 655.1  
 सारना  
 कर्तव्य पालन करना 895.8  
 घटान करना 954.12  
 चलता करना 1092.13  
 दूर करना 32.5  
 निवारण करना 920.14  
 परस्पर निर्वाह करना 702.5  
 पोछना 218.30  
 बुहारना 218.31  
 सारपूर्ण  
 अर्थयुक्त 426.27  
 तथ्यात्मक 820.24  
 पीष्टिक 179.22  
 प्रयोजनपूर्ण 508.6  
 बलिष्ठ 160.10  
 मांसयुक्त 132.18  
 सारपूर्ण 84.19 ⇨  
 सारपूर्णता  
 तथ्यात्मकता 820.15  
 सारबान  
 ऊँटवान 1082.14  
 सारभंग  
 अधिकारहीन 898.3  
 सारमिति  
 वेद 740.22

- सारमेय**  
कुत्ता 127.71  
पौराणिक कुत्ता सूची 127.74
- सारमेयी**  
मादा कुत्ता 127.72
- सार लेखन**  
सारांश 449.13
- सारल्य**  
सरलता 817.2
- सारवान [सारवती]**  
ठोस 289.23  
बलिष्ठ 160.10
- सारवान**  
वक्त्र कवच 921.9
- सार संक्षेप**  
सारांश 449.12
- सार संक्षेपण**  
संक्षेपण 980.5  
सारांश 449.13
- सारस**  
कमल 14.4  
जलपक्षी सूची 126.7  
सारस 126.74 ⇨  
हंस 126.76
- सार सन्हाल**  
चेतना 283.4
- सारस्वत**  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
ऋषि विषयक 789.26  
शिव 767.1  
सरस्वती विषयक 775.10
- सारस्वतोत्सव**  
वसत पंचमी 57.23
- सारस्वत्य**  
सरस्वती विषयक 775.10
- सारहीन**  
अबलिष्ठ 159.12  
अर्थहीन 426.28  
क्षमताहीन 488.15  
तथ्यहीन 821.22  
मज्जाहीन 132.21  
रसहीन 84.18  
सारहीन 84.20 ⇨
- सारहीनता**  
तथ्यहीनता 821.11
- सारांश**  
मूल तथ्य 820.16  
सारांश 449.12 ⇨
- सारांशः उक्ति सूची**  
सारांश उक्ति सूची 449.34 ⇨
- सारांश कथन**  
सारांश 449.13
- सारांश करना**  
सारांश करना 449.22 ⇨
- सारांश कर्ता**  
सारांश कर्ता 449.31 ⇨
- सारांशकः**  
सारांशकः 449.33 ⇨
- सारांशान**  
सारांशान 449.13 ⇨
- सारांशित**  
सारांशित 449.30 ⇨
- सारांशित करना**  
सारांशित करना 449.22
- सारा**  
थोक 666.13
- सारा [सारी]**  
अभजित 539.13  
अविभक्त 698.11  
असक्षिप्त 978.7  
एकीकृत 698.10  
पूर्ण रक्षित 527.16  
युतिहीन 1010.25  
व्यतीत 74.3  
समाप्त 942.20  
समाप्त (कार्य) 522.4  
सर्वांग 153.14
- सारापा**  
नखशिख वर्णन 449.7
- सारा माल बिल्ली**  
क्लीयरेंस सेल 661.8
- साराथ**  
मूल तथ्य 820.16  
सारांश 449.12
- सारि**  
वाद्य खूँटी 461.95
- सारिका**  
कुटनी 807.11  
दीवार खूँटी 1016.17  
दूती 467.16  
मादा तोता 126.45  
मैना 126.67
- सारिखा [सारिखी]**  
जैसा 317.32
- सारिणी**  
उत्स्रोत धारा 21.5  
जलधारा 21.15
- सारी**  
पासा 479.21
- सारी [सारिणी]**  
गतिशील 1042.11
- सारी (जैसे: चित्रसारी)**  
संग्रहालय 869.8
- सारी ओर**  
घटुदिशत 29.36
- सारी जगह**  
घटुदिशत 29.36
- सारी पूंजी**  
जन्म पूंजी 828.8
- सारूप्य**  
एकाकारता 967.3  
समानता 309.5  
सादृश्य 309.3
- सारे**  
सर्व 940.8
- सारे के सारे**  
समूहक 690.14  
सर्व 940.8
- सा रे गा मा**  
आरोह क्रम 991.3
- सारेगामा**  
सप्तक 459.3  
सरगम अभ्यास 460.12
- सारे में**  
घटुदिशतः 29.36
- सार्ज**  
सज्जी 87.17
- सार्जिट**  
सार्जिट 935.17 ⇨
- सार्जिट (ऑ)**  
पुलिस कर्मी 866.3  
सार्जिट 935.17
- सार्थ**  
अर्थयुक्त 426.27  
तीर्थ यात्री 1089.2  
दल 691.1  
पण्य सामान 866.5  
प्रयोजनपूर्ण 508.6  
समूह 690.1  
सार्थ 657.13 ⇨
- सार्थक**  
अर्थयुक्त 426.27  
उपयोगी 524.18  
प्रयोजनपूर्ण 508.6  
फलप्रद 118.18  
महत्त्वपूर्ण 852.8  
लामप्रद 648.16  
संगत 438.6
- सार्थकतः**  
उद्देश्यपूर्वक 508.12
- सार्थक तलारा**  
प्रतिलिखि 863.3
- सार्थकता**  
उपयोगिता 524.6  
फलप्रदता 118.3  
संगतता 438.1
- सार्थक ध्वनि**  
भाषा 421.1  
वाद्या 299.1  
शब्द 423.1
- सार्थक शब्दः उच्चारण**  
व्याकृता वाद्या 299.2
- सार्थक इना**  
उपयोगी होना 524.12
- सार्थपति**  
सार्थपति 657.14 ⇨
- सार्थपाल**  
सार्थपति 657.14
- सार्थ यात्रा**  
सार्थ यात्रा 657.12 ⇨  
सार्थ यात्रा 1088.3 ⇨  
सार्थ यात्रा (रे.)  
सार्थ यात्रा 1088.3
- सार्थ यत्री**  
सार्थ सदस्य 657.15
- सार्थबाह**  
व्यापारी 657.2  
सार्थपति 657.14
- सार्थ सदस्य**  
सार्थ सदस्य 657.15 ⇨
- सार्थिक**  
सार्थ सदस्य 657.15
- सार्थी**  
सार्थपति 657.14  
सार्थ सदस्य 657.15
- सार्थ**  
द्रवित 80.6
- सार्थ**  
उद्योका 949.33
- सार्थ**  
अगुप्त 822.28  
अर्हत 744.40  
तीर्थकर 792.1  
ब्रह्मांडीय 1.15  
समाजीय 688.14  
सामूहिक 690.13
- सार्थकाल**  
त्रिकालीन 36.17
- सार्थकालिक**  
ऋतु कालातीत 51.18  
त्रिकालीन 36.17  
शाश्वत 37.7
- सार्थजनिक**  
अगुप्त 822.28  
अपरिसीमित 1001.36  
पंचायती 892.12  
शासकीय 890.20  
समाजीय 688.14  
सर्व संज्ञात 441.21  
सामूहिक 690.13
- सार्थजनिक उपवन**  
सार्थजनिक उपवन 12.18 ⇨
- सार्थजनिकतः**  
अगुप्ततः 822.34
- सार्थजनिकता**  
सर्व संज्ञातता 441.9  
सामान्यता 311.1
- सार्थजनिक निर्माण विभाग**  
निर्माण विभाग 599.7
- सार्थजनिक मार्ग**  
सार्थजनिक मार्ग 1063.8 ⇨
- सार्थजनिक खन**  
बस 1071.60
- सार्थजनिक स्तूपसम्बन्ध**  
सार्थजनिक स्तूपसम्बन्ध 218.19 ⇨
- सार्थजनिक स्तूप**  
जन स्तूप 694.2
- सार्थजनिक सूचना**  
मुनाही 441.11
- सार्थजनिक**  
अपरिसीमित 1001.36

## सार्वजन्य

पंचायती 892.12  
शासकीय 890.20  
समाजीय 888.14  
सर्व संज्ञात 441.21  
सामान्य 311.3  
सामूहिक 690.13

**सार्वजन्य**  
अपरिसीमित 1001.38  
समाजीय 888.14

**सार्वभ्रिक**  
सर्वतोमुखी 29.29

**सार्वदेशिक**  
अखिल देश स्तरीय 35.7  
राज्य सघीय 881.33  
विश्व स्तरीय 35.9

**सार्वभौतिक**  
सर्वव्यापक 981.13

**सार्वभौम**  
अखिल देश स्तरीय 35.7  
दिग्गज सूची 780.3  
राज्य संघीय 881.33  
विश्व विख्यात 847.4  
विश्व स्तरीय 35.9  
सर्वव्यापक 981.13

**सार्वभौम भवन**  
राज महल 602.34

**सार्वभौम क्षता**  
प्रभु क्षता 899.2  
स्वाधीनता 900.1

**सार्वभौमिक**  
विश्व स्तरीय 35.9  
सर्वव्यापक 981.13

**सार्वलीकिक**  
अपरिसीमित 1001.36  
पंचायती 892.12  
विश्व स्तरीय 35.9  
समाजीय 888.14  
सर्वव्यापक 981.13  
सर्व संज्ञात 441.21  
सामूहिक 690.13

**सार्वदेशिक**  
वेदज्ञ 761.29

**सार्वदेश्य**  
संपूर्ण वेद 740.24

**सालंक**  
सालंग राग 457.20

**सालंग**  
सालंग राग 457.20

**सालंग राग**  
सालंग राग 457.20 ⇨

**साल**  
काष्ठ सूची 597.2  
परकोटा 604.11  
भवन 602.7  
व्य गणना उपमान सूची 229.12  
वर्ष 42.8  
वृक्ष 111.18  
संबन्ध 42.1

साल 13.26 ⇨  
-साल (जैसे: चित्रसाल)  
सग्रहालय 669.8

**सालाई**  
चीक 13.7

**सालाग**  
सालंग राग 457.20

**साल गिरह**  
जन्म दिवस 58.2

**सालग्राम बटी**  
शालग्राम बटी 938.47

**साल चौमासे**  
कभी कभी 36.25

**साल तमाभी**  
वार्षिक कार्य विवरण 449.10

**सालता [सालती]**  
धुमनशील 270.18  
टीसता [टीसती] 392.29  
पीकप्रद 392.26

**सालन**  
भाजी रसा 201.24  
रसेदार भाजी 201.20  
रसेदार मांस व्यंजन 206.31

**सालना**  
अप्रिय होना 370.3  
धुमना 270.11  
टीसना 392.19

**सालनामा**  
वार्षिक 71.22

**सालः पहला दिन**  
नव वर्ष 42.18

**सालवेष्ट**  
पूना 274.21

**सालहज**  
सलहज 724.38

**सालहा साल**  
दीर्घ काल तक 37.11

**साला**  
कमरा 614.1  
शकरा 467.20  
साला 724.36 ⇨  
-साला [-साली]  
वर्षीय 42.27

**सालाना**  
वार्षिक 71.22

**सालार**  
सेनापति 935.1

**सालार जंग**  
साला 724.36

**सालिक**  
कपका बुनकर 576.5  
यात्री 1087.2

**सालिगराम**  
शालग्राम बटी 938.47

**सालिम**  
अविमक्त 698.11  
पूर्णांशिक 940.13  
सुरक्षित 908.27

**सालियाना**  
वार्षिक देय 634.10  
वार्षिक पारिश्रमिक 643.9

**सालिस**  
एकांतर सख्यक 949.28  
तीसरा [तीसरी] 948.88

**सालिसनामा**  
विवाचन पंचाट 877.8

**साली**  
वार्षिक देय 634.10  
साली 724.39 ⇨

**सालू**  
ओडनी 585.9  
शाल 585.17

**साल्ध**  
दैत्य सूची 783.19

**साल्वेज (अ)**  
उबराई 1030.6

**सायंत**  
करदाता राजा 882.7

**सायक**  
जैन साधु 790.24

**सायकार**  
साहकार 633.4

**सायकारा**  
अवकारापूर्ण 494.23  
अव्यस्त 503.12

**सायज्ञ**  
घृणा कर्ता 370.7

**सायत**  
सीतिया डार 803.10

**सायधान**  
ध्यानमग्न 331.11  
युद्ध सन्नद्ध 907.43  
सलामी मुद्रा 1060.18  
सायधान 497.4 ⇨

**सायधान (दे.)**  
जागरुक 301.34

**सायधानतः**  
सायधानत 497.6 ⇨

**सायधान होना**  
सायधान होना 497.3 ⇨

**सायधानी**  
सायधानी 497.1 ⇨

**सायधानीपूर्वक**  
सायधानत 497.6

**सायधानी से**  
सायधानत 497.6

**सायधानीहीनता**  
असायधानी 498.1

**सायधि**  
अवधियुक्त 39.9

**सायधिक**  
अल्प कालीन 38.8  
अवधियुक्त 39.9  
भ्रातृशील 71.9

**सायधिकता**  
नियमितता 71.2

**सायधिकता 39.2 ⇨**  
सायधिक प्रकारान  
पत्रिका 445.2

**सायधिक विवाह**  
मुताह 799.5

**सायधि जमा खाता**  
सायधि जमा खाता 631.7 ⇨

**सावन**  
कजली 457.30  
वर्षा काल 54.1  
श्रावण 43.11

**सावन का महीना**  
वर्षा काल 54.1

**सावन भादों**  
वर्षा काल 54.1

**सावन मास**  
कर्म मास 43.21  
सौर मास 43.3

**सायनी**  
झूला तीज 57.8  
धान सूची 187.12

**सावनी हीज**  
झूला तीज 57.8

**साययव**  
शरीरी 139.13  
साकार 967.12

**सायययता**  
साकारता 967.1

**सायर्णि मनु**  
मनु सूची 788.4

**सायशेष**  
अवशेषयुक्त 939.18  
असमाप्त (कार्य) 523.6  
आशिक 939.11  
शोभाश 954.10

**सायिका**  
घाय मौं 720.2

**सायिन्न**  
कर्ण 771.47  
यसु 777.5  
शिय 767.1  
सूर्यीय 8.9

**सायित्री**  
अनामिका 150.18  
उपनयन सस्कार 798.20  
पार्वती 776.9  
प्रकाश किरण 288.1  
ब्रह्मा पत्नी 766.5  
ब्रह्मा. पत्नी सूची 766.6  
मोहिनी अवतार 769.11  
यमुना 20.18  
सरस्वती 20.24  
सायित्री 774.97 ⇨  
सायित्री 787.25 ⇨  
सुहागन 803.13  
सूर्य किरण 288.3

**सायित्री मंत्र**  
मंत्र सूची 741.4

सावित्री सूत्र  
यज्ञोपवीत 798 22  
सावेश  
आविष्ट 371.8  
सांशा  
आशापूर्वक 375 11  
प्रतीकापूर्ण 1057 8  
सारघर्ष  
आरघर्षपूर्वक 379 11  
साधुधी  
सास 724 7  
साष्टांग दंडवत  
साष्टांग दंडवत 1060.8 ⇨  
साष्टांग दंडवतः अंग सूची  
साष्टांग दंडवत अंग सूची 1060.9 ⇨  
साष्टांग योग  
योगांग 756 13  
सास  
सास 724.7 ⇨  
सासक  
अनुशासक 893 16  
सासः बहन  
मीसस 724 21  
सासः बहनोई  
मीससरा 724 20  
सासः भाई  
मीलसरा 724.18  
सासः भाभी  
मीलस 724.19  
सासः माता  
नानस 724 17  
सासरा  
ससुराल 601 9  
साससदय  
सात मरुत सूची 781 4  
सासु  
सास 724.7  
सासुय  
ईर्ष्यापूर्ण 709 4  
ईर्ष्यापूर्वक 709 11  
ईर्ष्यालु 709.6  
सासेज  
सासेज 206.39 ⇨  
सास्था  
श्रद्धालु 340.18  
सास्थि  
अस्थियुक्त 133.21  
सापना  
गलकंबल 134 14  
साख  
कोणयुक्त 970.12  
साह  
इसलामी साधु 790 23  
जयी 912.15  
दल नायक 852.6  
राजा 882.6  
साहकार 633.4  
सेठ 826.8

स्वामी 621.2  
साहचर्य  
विवाह 799.1  
व्यवहार 703 2  
सहनिवास 816 3  
सहयात्रा 1088 1  
साह जी  
सूफ़ी सत 790 10  
साहनी  
संगी 896.2  
साहब  
उच्च पदाधिकारी 652 6  
दल नायक 852.6  
नामांत पुरुष उपाधि सूची 856 8  
पुरुष उपाधि सूची 856 2  
स्वामी 621 2  
साहबजादा  
बड़ा आदमी. पुत्र 718.9  
साहबा  
नामात स्त्री उपाधि सूची 856 9  
साहबी  
दर्पिता 858 6  
पदाधिकारिता 652 3  
साहबे छाना  
आतिथेय 183 15  
साहस  
आठ अवगुण सूची 761 13  
धैर्य 394 6  
बल प्रयोग 487 5  
साहस 394.1 ⇨  
साहस (दे.)  
वीरता 396 1  
साहस छोड़ना  
युद्ध पलायन करना 916.14  
साहस टूटना  
साहस टूटना 395 17 ⇨  
साहस नाश  
साहस नाश 395.9 ⇨  
साहसपूर्वक  
वीरोचितत 396 10  
साहसपूर्वक 394 18 ⇨  
साहस भंग  
साहस नाश 395.9  
साहस यात्रा  
साहसिक यात्रा 1087 4  
साहस यात्री  
साहसिक यात्री 1087.5  
साहसहीन  
कापुरुष 395 29  
साहसहीनता  
कापुरुषता 395.12  
साहस होना  
साहस होना 394.10 ⇨  
साहसिक  
साहसिक यात्री 1087 5  
साहसी 394.13  
साहसिकता  
भयहीनता 394 7

साहसिक यात्रा  
साहसिक यात्रा 1087.4 ⇨  
साहसिक यात्री  
साहसिक यात्री 1087.5 ⇨  
साहसी  
परिश्रमी 493 9  
प्रतिरोधी 915.11  
भयहीन 394 16  
वीर 396 6  
साहसिक यात्री 1087.5  
साहसी 394.13 ⇨  
साहसी होना  
साहस होना 394.10  
साहस्य  
हजारवाँ [हजारवीं] 948 105  
हजारः समुदाय 687 23  
साहस्यक  
हजारः समुदाय 687 23  
साहस्यिक  
हजारवाँ [हजारवीं] 948 105  
साहित्य  
साहित्य 450.1 ⇨  
साहित्य कृति 450.2  
साहित्य (दे.)  
पुस्तक 446.1  
साहित्य उपभोक्ता  
पाठक 399 5  
साहित्य कर्म  
साहित्य लेखन 448.1  
साहित्य कर्मी  
साहित्य लेखक 448 2  
साहित्य कला  
कला सूची 397 12  
साहित्य कला देवी  
सरस्वती 775.8  
साहित्यकार  
साहित्य लेखक 448.2  
साहित्यकारिता  
साहित्य लेखन 448 1  
साहित्य कृति  
साहित्य कृति 450.2 ⇨  
साहित्य गोष्ठी  
साहित्य गोष्ठी 894.8 ⇨  
साहित्य जीवी  
साहित्य लेखक 448 2  
साहित्य पाठक  
पाठक 399.5  
साहित्य प्रेमी  
साहित्य प्रेमी 400.18 ⇨  
साहित्य रचना  
साहित्य लेखन 448 1  
साहित्य सिखना  
लेखन करना 448.25  
साहित्य लेखक  
साहित्य लेखक 448.2 ⇨  
साहित्य लेखन  
साहित्य लेखन 448.1 ⇨

साहित्य शास्त्र  
काव्य शास्त्र 453.1  
साहित्य शास्त्री  
काव्य शास्त्री 453.2  
साहित्य सृजन  
साहित्य लेखन 448 1  
साहित्य सेवा  
साहित्य लेखन 448.1  
साहित्य सेवी  
पाठक 399.5  
साहित्य प्रेमी 400.18  
साहित्यिक  
साहित्य प्रेमी 400.18  
साहित्य लेखक 448.2  
साहित्यिक 450.32 ⇨  
साहित्यिक रचना  
साहित्य कृति 450.2  
साहित्यीय  
साहित्यिक 450.32  
साहिब  
प्रवीण व्यक्ति 303 9  
मुसलमान सिद्ध 790.32  
शासक 890 5  
साधु संन्यासी 790 1  
सूफ़ी संत 790 10  
साहिब सलामत  
अल्प परिचितता 704 10  
साहिबाना  
राज वैभवशाली 226 17  
राजा योग्य 882.35  
साहिबी  
उच्च पदाधिकार 652.5  
साहिबीयत  
दर्पिता 858.6  
साहिबे कमाल  
सिट साधु 790.30  
साहिबे किताब  
पैगंबर 791 1  
मुहम्मद 791.20  
साहिर  
जादूगर 474.11  
साहिरी  
जादू 474.2  
जादूगरी 474.9  
साहिल  
तट 25.8  
साही  
राजतंत्रात्मक 881.39  
राजा योग्य 882.35  
साही 127.70 ⇨  
साहीः कौटा  
साहीः रोम 135.5  
साहीः रोम  
साहीः रोम 135 5 ⇨  
साहु  
इसलामी साधु 790.23  
साहुल  
साहुल 559.52 ⇨

## साहुल डोरी

साहुल डोरी  
साहुल डोरी 559.53 ⇨  
साहु  
ईश्वर 764.1  
दल नायक 852.6  
राजा 882.6  
साहूकार 633.4  
सुफ़ी संत 790.10  
सेठ 626.8  
स्वामी 621.2  
साहूकार  
साहूकार 633.4 ⇨  
साहूकारा  
साहूकारा 633.3 ⇨  
साहूकारी  
साहूकारा 633.3  
साहूकारी हुंडी  
हुंडी 633.16  
सिकाई  
भबकारा 104.6  
सिकाई 104.5 ⇨  
सिकाई 195.28 ⇨  
सिंगरफ  
सिंदूर 225.18  
सिंगरफ़ी  
सिंदूरी लाल 289.63  
सिंगल बैड  
सिंगल बैड 594.13 ⇨  
सिंगल बैड (औं)  
सिंगल बैड 594.13  
सिंगलक्स (औं)  
एकल खेल 475.3  
सिंगा  
नरसिंघा 461.60  
होर्न 461.92  
सिंगा [सिंघी]  
सींगदार 140.25  
सिंगार  
बान तेल 800.30  
शृंगार 222.1  
शृंगार रस 455.20  
सिंगार कक्ष  
शृंगार कक्ष 222.7  
सिंगार घर  
शृंगार घर 222.8  
सिंगारदान  
सिंगारदान 225.34  
सिंगारदान  
सिंगारदान 225.34 ⇨  
सिंगारदान  
सुहाग पिटारा 802.6  
सिंगारना  
शृंगार कर्म करना 222.15  
शोभान्वित करना 226.8  
सिंगारपट्टी  
शृंगार 222.1  
सिंगार पेंटी  
सिंगारदान 225.34

सिंगार मेज़  
ट्रेसिंग टेबल 595.36  
सिंगार रस  
शृंगार रस 455.20  
सिंगार हार  
हार सिंगार 13.27  
सिंगारिया  
मेकअप मेन 464.40  
शृंगार कर्मी 222.10  
सिंगाला [सिंघाली]  
सींगदार 140.25  
सिंगी  
नरसिंघा 461.60  
सिंघाड़ा मछली 125.14  
सिंगीटी  
बारुद कुप्पी 678.11  
सिंदूरदानी 225.35  
सिंघा  
नरसिंघा 461.60  
सिंघा [सिंघी]  
सींगदार 140.25  
सिंघाड़ा  
समोसा 200.22  
सिंघाड़ा 190.35 ⇨  
सिंघाड़ा मछली  
सिंघाड़ा मछली 125.14 ⇨  
सिंघाण  
कफ 215.16  
नासिका मल 215.17  
लीह मल 214.6  
सूखा नासिका मल 215.18  
सिंघी  
नरसिंघा 461.60  
सिंघाड़ा मछली 125.14  
सिंघन  
आर्द्रण 88.17  
क्षीण वर्षा 54.9  
छिड़काव 688.7  
सिंघन 548.13 ⇨  
सिंघन करना  
सिंघन करना 548.38 ⇨  
सिंघन कृषि  
सिंघन कृषि 548.18 ⇨  
सिंघन: फुहारा  
सिंघन: फुहारा 1032.12 ⇨  
सिंघन व्यवस्था: कृषि  
सिंघन कृषि 548.16  
सिंघनहीन  
वर्षा सिंधित 548.56  
सिंघनहीन कृषि  
वर्षासिंधित कृषि 548.17  
सिंघा [सिंघी]  
आर्द्र 88.27  
सिंधित 548.56  
सिंघाई  
सिंघन 548.13  
सिंघाई करना  
सिंघन करना 548.38

सिंधित  
आर्द्र 88.27  
सिंधित 548.55 ⇨  
सिंधित खेल  
सिंधित खेल 551.15 ⇨  
सिंधीनी  
सिंधन 548.13  
सिंधित  
वादित 461.105  
सिंधिकेट (औं)  
कपनी 692.4  
गुट 885.9  
समिति 692.20  
सिंधियासी  
संज्ञसा 560.7  
सिंध  
सिंध 27.23  
सिंधु 20.22  
सिंदारा तीज  
शुला तीज 57.8  
सिंदूर  
सिंदूर 225.18 ⇨  
सिंदूर दान 800.49  
सुहाग घिसन सूची 803.15  
सिंदूर कारण  
सीसा 94.14  
सिंदूर तिलक  
सिंदूर बिंदी 225.15  
सिंदूरतिलका  
सुहागन 803.13  
सिंदूर दान  
सिंदूर दान 800.49 ⇨  
सिंदूरदानी  
सिंदूरदानी 225.35 ⇨  
सिंदूर धारण  
सोलह सिंगार सूची 222.3  
सिंदूर बिंदी  
सिंदूर बिंदी 225.15 ⇨  
सिंदूरिया  
सिंदूरी लाल 289.63  
सिंदूरी  
लाल 289.60  
सिंदूरी लाल 289.63  
सिंदूरी लाल  
सिंदूरी लाल 289.63 ⇨  
सिंदोरा  
सिंदूरदानी 225.35  
सिंध  
सिंध 27.23 ⇨  
सिंधु 20.22  
सिंधिया  
रज [रनी]: प्लवन (मरठ) सूच 882.11  
सिंधी  
भारत: राष्ट्रभाषा सूची 421.4  
सिंधी हलवा  
सिंधी हलवा 203.46 ⇨  
सिंधी हुंडी  
हुंडी 633.16

सिंधु  
घाट: उपमान सूची 948.24  
नदी 20.1  
बड़ी नदी 20.5  
भारत उपमहाद्वीप: नदी सूची 207  
वरुण 773.43  
समुद्र 24.1  
सिंध 27.23  
सिंधु 20.22 ⇨  
सिंधुक  
समुद्रीय 24.23  
सिंधुज  
शंख 461.78  
सुहागा 281.33  
सिंधुजा  
लक्ष्मी 775.1  
सिंधुजात  
मोती 97.2  
सिंधुजा  
राग रागिनी सूची 457.24  
सिंधु देश  
भारत 28.1  
सिंधु नद्य  
सिंधु 20.22  
सिंधुपुष्प  
कदंब 13.6  
मीलसिरी 13.20  
सिंधु माता  
सरस्वती 20.24  
सिंधु मुख  
डेल्टा 21.24  
सिंधुर  
हाथी 127.38  
सिंधुर मणि  
हस्ति मणि 96.21  
सिंधुराज  
जयद्रथ 771.56  
समुद्र 24.1  
सिंधु लक्षण  
संध्या नमक 279.9  
सिंधुरागीची  
विष्णु 768.1  
सिंधु संभवा  
फिटकरी 281.25  
सिंधुदुग्ध  
चंद्रमा 8.2  
सिंधल (औं)  
प्रतीक 408.1  
सिंह  
राग रागिनी सूची 457.24  
विष्णु 768.1  
सिंह 127.50 ⇨  
सिंह घर्माघलंबी 737.20  
सिंह (दे.)  
बाघ 127.55  
सिंहघोषि  
बोधिसत्व सूची 793.16

सिंहद्वार	सिंहासनारोहण	मार्जक 218.39	सिक्किम: राजधानी
गोपुर 608 8	मंदिर प्रतिष्ठापना 598 7	शस्त्र मार्जक 929 10	सिक्किम: राजधानी 28.69 ⇨
फाटक 608 9	सत्तारोहण 899 14	सिक लीव (अं)	सिक्की
मुख्य द्वार 608.7	सिंहिका	रोग अवकाश 494 12	सिख धर्म 737 19
सिंहद्वीप	देव्य स्त्री सूची 783 21	सिकहर	सिक्त
श्रीलंका 27 17	राक्षस स्त्री सूची 784 23	छीका 676 10	आर्द्र 88 27
सिंहध्वज	सिंहिका 783 24 ⇨	सिकुङ	सिंधित 548.55
बोधिसत्व सूची 793 16	सिंहिका: पति	सिकुङन 980 10	सिक्तता
सिंहनाद	विप्रथिति 783 15	सिकुङन	आर्द्रता 88.16
दहाङ 298.22	सिंहिका पुत्र	खिचन 392 9	संसिक्तता 1008 16
युद्धनाद 907 15	राहु 6 4	झुरी 134 11	सिक्त होना
शिय 767 1	सिंहिका: पुत्र सूची	ठिदुरन 105 4	संसिक्त होना 1008.23
सिंहनी	सिंहिका पुत्र सूची 783.26 ⇨	त्वचा बलय 134 8	सिक्ता
मादा सिंह 127 51	सिंहिका: पुत्री	मुकुलन 120 1	रेत 100 1
वीर स्त्री उपमान 396 4	होलिका 783 27	शिकन 975 7	सिक्ता तट
सिंहमुखी	सिंहिका: संतान	सिकुङन 980 10 ⇨	बालू तट 25.18
नोनिया मिट्टी 100.18	सिंहिका सतान 783 25 ⇨	सिकुङना	सिक्ति
सिंहमुखी भवन	सिंहिनी	ठिदुरना 105 18	सम्मिक्तन 1008 15
सिंहमुखी भवन 602.31 ⇨	मादा सिंह 127 51	मुकुलित होना 120 5	सिक्थ
सिंह शशि	सिंहि	शिकन पङना 975 20	मोती लड़ी गुच्छा 228.39
राशि सूची 4 8	सिंहिका 783 24	सिकुङना 980 17 ⇨	सिक्थ
सिंहल	सिंहोद्धता	सिकुङा [सिकुङी]	छीका 676 10
टीन 94 6	वसत तिलका 452 16	मुकुलित 120 8	सिक्थ्या
श्रीलकाई 27 30	सिंहोभ्रता	लघुकाय 154 28	खरिया 673 19
सिंहलक	वसत तिलका 452 16	शिकनदार 975 28	सिक्खर (अं)
पीसल 94 10	सिअरा [सिअरी]	सिकुङा [सिकुङी] 980 28 ⇨	छक्का 475 33
सिंहल द्वीप	शीतल 105 19	सिकुङा [सुकुङी]	सिखा
श्रीलंका 27 17	सिकं दरा	तग [परिधान] 583 27	शिखा 137 10
सिंहल द्वीपी	सिगनल 1067 13	सिकोङना	शिष्य 323.24
श्रीलकाई 27 30	सिकटा	सिकोङना 980 18 ⇨	सिख धर्मावलंबी 737.20
सिंहली	मृद्भाडाश 77.6	सिकोङा [सिकोङी]	सिख (बे.)
श्रीलकाई 27 30	सिकटी	तहाया [तहाई] 975 32	केशधारी 137.19
सिंहवाहिनी	मृद्भाडाश 77 6	सिकोरा	सिख गुरु
दुर्गा 776 7	सिकङी	सकोरा 683 10	सिख गुरु 794.1 ⇨
सिंह विक्रम	अर्गल 609 18	भिकारी	सिख गुरुद्वारा
महावीर 396 8	कंठहार 228 26	बांस बेत टोकरा 677 4	सिख गुरुद्वारा 745.28 ⇨
सिंहाजिन	करधनी 228 7	सिकोली	सिख गुरु सूची
मृगछाला आदि सूची 595 5	शुखला 569 26	बांस बेत टोकरा 677.4	सिख गुरु सूची 794.2 ⇨
सिंहान	सिकत	सिक्कङ	सिखतक
नासिका मल 215 17	रेत 100 1	कंठहार 228 26	नौसिखिया 304.10
लौह मल 214.6	सिकता	गला जंजीर 555 13	प्रशिक्षु 321 47
सिंहावलोकन	दोमट 100 17	सिक्का	सिखतकपन
सिंहावलोकन 330 10 ⇨	पथरी 166 6	ठप्पा 414 12	नौसिखियापन 304.5
सिंहावलोकन करना	रेत 100 1	घातु पिंड सूची 976 12	सिख धर्म
सिंहावलोकन करना 330 15 ⇨	शर्करा 280 21	नीकाग्र 1073.23	सिख धर्म 737.19 ⇨
सिंहावलोकन कर्ता	सिकतामय	पदक 857.7	सिख धर्मविह्न
सिंहावलोकन कर्ता 330.27 ⇨	रेतीला [रेतीली] 100.23	मुद्रांक 414.17	ककार 407.9
सिंहावलोकित	सिकतिल	सिक्का 629.1 ⇨	सिख धर्माधिकारी
सिंहावलोकित 330.26 ⇨	रेतीला [रेतीली] 100 23	सिक्का: कंठहार	सिख धर्माधिकारी 744.46 ⇨
सिंहासन	सिकतर	सिक्का: कंठहार 228.29 ⇨	सिख धर्मावलंबी
देवता. आसन 596.7	सधिय 852 23	सिक्का किनारा	सिख धर्मावलंबी 737.20 ⇨
राजा पद 882.8	सिकरम	आँवठ 1000 11	सिखरन
सिंहासन 595.9 ⇨	ऊँट गाड़ी 1071.35	सिक्का: गुल्ली	श्रीखंड 203.42
सिंहासन भ्रष्ट	सिकली	बीड 674.9	सिखलाना
सत्ताप्युत 902.25	शस्त्र मार्जन 929.6	सिक्का न चलना	जीव प्रशिक्षण करना 565.30
सिंहासनारूढ	सिकलीगर	वरा न होना 900.6	प्रशिक्षित करना 321.33
सत्तारूढ 899.25	घर्बक 541.11	सिक्किम	शिक्षण करना 321.32
	तीक्ष्ण कर्ता 270.20	सिक्किम 28.88 ⇨	सीख देना 332.12

## सिखवाद

### सिखवाद

सिखवाद 884.25 ⇨

### सिखाई

पट्टी पकाई 332.9

प्रशिक्षण 321.20

### सिखाना

अभ्यास कपवाना 303.13

जीव प्रशिक्षण करना 555.30

पट्टी पकाना 332.13

प्रशिक्षित करना 321.33

शिक्षण करना 321.32

सीख देना 332.12

### सिखावन

सीख 332.8

### सिगरी

अंगीठी 109.5

### सिगनल

सिगनल 1067.13 ⇨

### सिगनल (अँ)

कूट संकेत 823.5

सिगनल 1067.13

### सिगरे

सर्व 940.8

### सिगरेट

सिगरेट 213.9 ⇨

### सिगरेट (अँ)

सिगरेट 213.9

### सिगरेट धैली

सिगरेट धैली 676.7 ⇨

### सिगार

सिगार 213.8 ⇨

### सिगार (अँ)

सिगार 213.8

### सिग्नेचर (अँ)

हस्ताक्षर 444.8

### सिजदा

नमाज़: सिजदा 751.17

### सिजदा करने वाला

सिजदा करने वाला 751.18 ⇨

### सिजदागाह

उपासनालय 745.13

मसजिद 745.17

### सिजदा नमाज़

धर्म कर्म 747.1

### सिजदा उपरांत पहली बैठक

नमाज़: जलसा 751.14

### सिद्धान्त

बाष्प पक्व 195.36

सिद्धान्त 195.42 ⇨

### सिद्धान्त

संसिक्त होना 1008.23

सिद्धान्त 195.58 ⇨

### सिद्धान्त [सिद्धान्त]

सिद्धान्त [सिद्धान्त] 195.81 ⇨

### सिद्धान्त

बाष्प पक्व 195.36

### सिटकनी

घटकनी 609.20

### सिटकनी

1688

### सिटपिटाना

आतंकित होना 395.16

### सिटटी कार्पोरेशन (अँ)

नगर निगम 892.8

### सिटटीज़न (अँ)

नागरिक 883.2

### सिटटीज़नशिप (अँ)

नागरिकता 883.1

### सिट्टा

अनाज. बाल 113.8

### सिट्टी पिट्टी

धेतना 263.4

तत्काल बुद्धि 301.2

साहस 394.1

### सिद्ध

ख़्वा 353.11

### सिद्धीपन

सठियायापन 353.13

### सिद्धीपना

ख़्वा 353.11

### सितंबर

ईसवी मास सूची 43.4

### सितंबर 22/23

शरद विषुव 5.23

### सित

श्वेत 289.65

### सितकंठ

शिव 767.1

### सितकर

चंद्रमा 8.2

### सितकुंजर

इंद्र 773.5

### सित कुंजर

सफेद हाथी 127.40

### सितता

श्वेतिमा 289.19

### सितानु

सतलज 20.20

### सितधार

तीक्ष्ण 270.19

### सित पक्ष

शुक्ल पक्ष 45.3

### सितपक्ष

हंस 126.76

### सितपुष्पी

कोस घास 11.7

### सितम

अत्याचार 835.3

अनैतिकता 816.1

उत्पीड़न 391.10

नादिर शाही 884.3

निर्दयता 835.2

न्यायहीनता 874.3

संकट 909.1

### सितमगर

अत्याचारी 835.13

न्याय अकर्ता 874.38

### सितमज्जा

अत्याचारित 835.12

उत्पीड़ित 391.28

### सित यामिनी

उजली रात 48.4

### सितराग

घोंदी 95.3

### सित बराह

बराह अवतार 769.34

### सितौ

स्थान 33.1

### सितांग

बेला 14.20

शिव 767.1

### सितांबुज

श्वेत कमल 14.7

### सितांशु

कपूर 274.14

चंद्रमा 8.2

### सितांशुक

मलमल 580.35

श्वेतांबर 737.4

### सिता

मिसरी 280.19

पुरा 274.24

शर्करा 280.21

### सितार

सितार 461.88 ⇨

### सितार तार

सितार तार 461.98 ⇨

### सितारबाज़

सितार वादक 461.89

### सितार वादक

सितार वादक 461.89 ⇨

### सितारा

तारा 3.2

नक्षत्र 4.5

प्रारब्ध 260.1

सितार 461.88

सितारे 571.50

स्टार 464.17

### सितारा [सारिका]

प्रमुख अभिनेता 464.7

### सितारा क्षमकना

सौभाग्य आना 260.24

### सितारा खूबना

दुर्भाग्य आना 260.25

### सिताराशानास

ज्योतिषी 261.2

### सिताराशानासी

फलित ज्योतिष 261.1

### सितारिया

सितार वादक 461.89

### सितारे

प्रारब्ध 280.1

सितारे 571.50 ⇨

### सितारे मिलना

जन्मपत्री मिलना 799.51

### सितारों की गर्बिण

भाग्य चक्र 260.15

### सितासित

उत्तम अनुत्तम 313.10

गंगा-यमुना संगम 20.13

बलराम 771.74

### सितासिता

गंगा यमुना 20.12

### सिति

सान घराई 564.7

### सितुही

सीपी 124.19

### सितेतर

काला 289.37

### सितोत्पल

श्वेत कमल 14.7

### सितोपल

खड़िया मिट्टी 100.13

श्वेत कमल 14.7

### सिदौसी

शीघ्रत 496.13

### सिधीक

जॉनिसार 826.14

विश्वसनीय 340.13

### सिद्ध

अभिमंत्रित 758.40

अभ्यस्त 303.19

उगाहा [उगाही] 634.24

उपपन्न 328.10

ऋषि 789.2

कार्यान्वित 505.27

कृत 505.20

जादूगर 474.11

तुष्ट 374.20

देव योनि सूची 772.37

धतूरा 212.7

पक्व 195.77

पक्व (वनस्पति) 118.19

पराजित 913.5

प्रमाणित 327.9

प्रवीण 303.22

प्रवीण व्यक्ति 303.9

भुगतान कृत 634.25

मनाया [मनाई] 374.19

योगी 756.3

वशाधीन 901.9

वशीकृत 758.41

विष्णु 768.1

शक्तिशाली 487.20

शिव 767.1

सफल 512.6

समाप्त (कार्य) 522.4

सिद्ध 779.17 ⇨

सिद्ध 877.22 ⇨

सिद्ध साधु 790.30

### सिद्ध करना

सिद्ध करना 877.18 ⇨



सिद्ध कलाकर्मी  
सिद्ध कलाकार 397.19  
सिद्ध कलाकार  
सिद्ध कलाकार 397.19 ⇨  
सिद्धकाम  
पूर्णछ 361.13  
सिद्ध कामेश्वरी  
दुर्गा मूर्ति सूची 746.4  
सिद्धकारी  
नियम पालक 879.20  
सिद्धकार्यता  
सफलता 512.1  
सिद्ध गुटिका  
जादुई गोली 474.21  
सिद्धता  
वाद सिद्धि 877.1  
साधु सिद्धि 790.29  
सिद्ध तापस  
सिद्ध साधु 790.30  
सिद्ध दंड  
जादुई छत्री 474.24  
सिद्धदोष  
सिद्धदोष 877.23 ⇨  
सिद्धदोष पाना  
सिद्धदोष पाना 877.19 ⇨  
सिद्ध ब्रह्म  
जादु उपकरण 474.18  
सिद्धन  
प्रमाणन 327.3  
सिद्ध नर  
सिद्ध साधु 790.30  
सिद्धनाथ  
शिव 787.1  
सिद्ध पुरुष  
सिद्ध साधु 790.30  
सिद्धपुष्प  
कनेर 14.3  
सिद्ध बनाना  
अभ्यास करवाना 303.13  
सिद्ध मत  
निर्णीत मत 324.16  
सिद्ध योगिनी  
जादुगरनी 474.12  
मनसा 774.62  
सिद्ध योगी  
योगेश्वर 756.5  
सिद्धरत्न  
कीमियागर 87.7  
सिद्ध बस्ति  
एनीमा 216.11  
सिद्ध वाद  
सिद्ध वाद 877.2 ⇨  
सिद्ध साधक  
महावेद्य 172.9  
सिद्ध साधन  
विष्णु 768.1  
सिद्ध साधु  
सिद्ध साधु 790.30 ⇨

सिद्ध सेन  
स्कंद 773.50  
सिद्ध स्त्री  
सिद्ध स्त्री 790.31 ⇨  
सिद्धहस्त  
प्रवीणता 303.27  
सिद्धहस्त करना  
अभ्यास करवाना 303.13  
सिद्धहस्तता  
प्रवीणता 303.8  
सिद्ध होना  
कार्यान्वित होना 505.13  
सिद्धांगना  
सिद्ध स्त्री 790.31  
सिद्धांजन  
जादुई काजल 474.20  
सिद्धांत  
आदर्श 829.4  
कहावत 424.12  
तर्क 325.1  
दार्शनिक प्रणाली 760.4  
धर्म 735.1  
निदर्श 328.3  
निर्णीत मत 324.16  
विधि (कानून) 878.1  
शास्त्र 318.2  
सिद्ध वाद 877.2  
सिद्धांत 343.9 ⇨  
सिद्धांतकार  
शास्त्र रचता 318.9  
सिद्धांतकार 343.17 ⇨  
सिद्धांतज्ञ  
विशेषज्ञ 305.36  
शास्त्रज्ञ 318.10  
सिद्धांत ज्योतिष  
खगोल विज्ञान 1.4  
सिद्धांतः प्रतिबद्धता  
प्रतिबद्धता 826.6  
सिद्धांत चयन  
सूत्र वाक्य 424.18  
सिद्धांत वाक्य  
न्याय वाक्य 424.17  
सिद्धांतवादिता  
आदर्शवादिता 829.3  
सिद्धांतवादी  
आदर्शवादी 829.10  
सिद्धांतकार 343.17  
सिद्धांतहीन  
आदर्शहीन 828.11  
सिद्धांतहीनता  
आदर्शहीनता 828.4  
सिद्धांती  
मीमांसक 427.30  
व्याख्याता 427.32  
सिद्धांतीय  
सैद्धांतिक 343.16  
सिद्धांतराध  
सिद्धदोष 877.23

सिद्धार्थ  
गौतम बुद्ध 793.1  
पूर्णछ 361.13  
महावीरः पिता 792.5  
विष्णु 768.1  
सफल 512.6  
सिद्धार्थकारी  
शिव 767.1  
सिद्धार्थमति  
बोधिसत्व सूची 793.16  
सिद्धासन  
योग आसन सूची 768.19  
सिद्धि  
इच्छा पूर्ति 361.1  
उपपत्ति 328.1  
कार्य समाप्ति 522.1  
गणेशः पत्नी सूची 773.26  
जय 912.1  
जादु 474.2  
दुर्गा 776.7  
घातु शोधन 219.4  
पक्व 195.41  
प्रवीणता 303.8  
बाज़ीगरी 473.17  
भोग 210.1  
योग शक्ति 756.17  
रस परिपाक 455.7  
रसानुभूति 455.4  
वाद सिद्धि 877.1  
सफलता 512.1  
समाधान 334.6  
समृद्धि 826.1  
साधु सिद्धि 790.29  
साध्या 787.26  
सिद्धि (गणेशः पत्नी) 774.98  
सिद्धि (धर्मः पत्नी) 774.99  
सिद्धि (गणेशः पत्नी)  
सिद्धि (गणेशः पत्नी) 774.98 ⇨  
सिद्धि (धर्मः पत्नी)  
सिद्धि (धर्मः पत्नी) 774.99 ⇨  
सिद्धिकर  
सफलताप्रद 512.5  
सिद्धिव  
शिव 767.1  
सफलताप्रद 512.5  
सिद्धिवाता  
गणेश 773.22  
सिद्धि बारी देखी  
सिद्धि देवी 774.100  
सिद्धिवाचक यंत्र  
सिद्धिवाचक यंत्र 758.13 ⇨  
सिद्धि देवी  
सिद्धि देवी 774.100 ⇨  
सिद्धि देवी सूची  
सिद्धि देवी सूची 774.101 ⇨  
सिद्धि न मिलना  
असफल होना 513.2

सिद्धिप्रद  
मोक्षप्रद 257.8  
सफलताप्रद 512.5  
सिद्धि प्राप्त  
प्रवीण 303.22  
सिद्धि रस  
पारा 94.9  
सिद्धि लेखक  
नाट्य सिद्धि निर्णायक 468.31  
सिद्धि विनायक  
गणेश 773.22  
सिद्धि साधक  
जादुई सरसों 474.32  
साधक 303.21  
सिद्धि साधन  
साधना 303.7  
सिद्धिहीनता  
असफलता 513.1  
सिद्धेश्वर  
शिव 767.1  
सिद्धेश्वर  
योगेश्वर 756.5  
शिव 767.1  
सिद्धेश्वरी  
योगेश्वरी 756.6  
सिद्धोबक  
काँजी 208.13  
सिद्धोध्य  
साध्य 518.16  
सिद्धाई  
अवक्रता 974.2  
सीध 974.9  
सिधाना  
जाना 1091.6  
सिधाना  
जाना 1091.6  
मरना 249.18  
सिनक  
नासिका मल 215.17  
सिनकाई 215.20  
सिनकाई  
सिनकाई 215.20 ⇨  
सिनागोग (अं)  
यहूदी पूजा स्थल 745.27  
सिनान  
भालाः फल 925.6  
सिनीवाली  
चतुर्दशीयुक्त अनावस्था 44.22  
देवसेना 774.47  
पौराणिक नदी सूची 20.23  
सिनीवाली 774.102 ⇨  
सिने कैमरा (अं)  
फिल्म कैमरा 405.17  
सिनेमा (अं)  
फिल्म 472.1  
फिल्म जगत 470.3  
सिनेमा घर 471.11

## सिनेमा घर

सिनेमा घर	सिपाही: चकूतरा	सहमना 395 15	सियारा
सिनेमा घर 471.11 ⇨	रोड आइलैंड 1064.7	सिकुडना 980.17	शीत काल 53.1
सिनेमा घर मालिक	सिपाही चौकी	सिमटा [सिमटी]	सिया राम
फ़िल्म प्रदर्शक 470.6	पुलिस चौकी 866.4	तहाया [तहाई] 975.32	सीता राम 770.69
सिनेमा घरदा	सिपुर्द	मुकुलित 120 8	सियाला
सिनेमा परदा 606.4 ⇨	सिपुर्द 638.18 ⇨	सिकुडा [सिकुडी] 980.28	शीत काल 53.1
सिनेमा परदा सूची	सिपुर्द करना	सिमरकदानी	सियावङ
सिनेमा परदा सूची 606.5 ⇨	सिपुर्द करना 638.13 ⇨	सिंदूरदानी 225.35	साधु. देय उपज 647.29
सिनेमास्कूप	सिपुर्दगी	सिमरन	सियावङ्गी
सिनेमा परदा सूची 606.5	सिपुर्दगी 638.5 ⇨	स्मरण 356 2	साधु: देय उपज 647.29
सिनेमा हाउस (अँ)	सिपुर्दारी	सिमस्मि	सियासत
सिनेमा घर 471 11	सिपुर्दगी 638.5	तिल 196 17	राजनीति 884.1
सिनेमा हाल (अँ)	सिप्पा	सरसों 196 20	राज्य व्यवस्था 881 12
सिनेमा घर 471.11	कूट युक्ति 819.8	सिमाना	शासन कर्म 890.3
सिनेमेटोग्राफ (अँ)	प्रताप 849.5	सीमात 1001 19	सियासती
फ़िल्म कैमरा 405.17	प्रयोजन 508.1	सीमांत क्षेत्र 34.4	राजनीति विषयक 884.36
सिनेमेटोग्राफर (अँ)	युक्ति 517 1	सिमिट्रिकल (अँ)	सियासी
फ़िल्मांकनकार 472 16	लक्ष्य 931 1	सममित 1026.8	राजनीति विषयक 884.36
सिनेमेटोग्राफी (अँ)	स्वार्थ 712 5	सिमिटी (अँ)	सिया सुकुमारी
फ़िल्मांकन 472 15	सिप्पी	सममिति 1026 2	सीता 770 66
सिनेस्कोन (अँ)	हस्त चिह्न सूची 261.38	सिम्य	सियाहा
सिनेमा परदा 606.4	सिप्रा	दिशा 29.1	रोज़नामचा 632.20
सिनीटिक गीस्प्लस (अँ)	भँस 127.19	दिशा में 29.35	सियाही
न्यू टेस्टार्मट 739.12	सिफ़त	सिय	कालिमा 289 12
सिन्योरा (इतालवी)	लक्षण 317.5	सीता 770.66	सिर
स्त्री उपाधि सूची 856 4	विशिष्टता 312.2	सियना	आरभ 994.3
सिपर	-सिफ़त	सृष्टि बनाना 529.4	उच्चता: उपमान सूची 982.13
डाल 921.1	सादरय: उक्ति सूची 309.26	सियरा [सियरी]	उच्च भाग 982.5
सिपर डालना	सिफ़र	अपक्व (वर्नस्पति) 118.20	कपाल 133.6
युद्ध समर्पण करना 916 17	विंदु चिह्न 968.2	सियराई	छोर 1000 3
सिपरबारी	शून्य 948 13	ठिठुरन 105.4	टॉट 140.4
पहरेदारी 908 8	शून्य चिह्न 948.14 .	शीतलता 105.1	दायित्व पर 895.14
सिपररा	सिफ़ारत	सियराता [सियराती]	नीकाग्र 1073.23
स्त्री: कमरबंद 571.9	दूत कर्म 443.8	शीत कालीन 53.14	शरीर: ऊर्ध्व भाग 139.4
सिपहगरी	राजदूतावास 443.13	सियराना	शिखर 982.6
संरक्षा 908.3	सिफ़ारत छाना	ठिठुरना 105.18	साष्टांग दंडवत: अंग सूची 1060.9
सैनिकता 932.2	राजदूतावास 443 13	शीत काल होना 53.11	सिर 140.1 ⇨
सिपहसालार	सिफ़ारिश	सिय सुकुमारी	सिर: अग्र केश
सेनापति 935.1	सिफ़ारिश 841.19 ⇨	सीता 770.66	अग्रकेश 137.3
सिपहिया	सिफ़ारिश करने वाला	सिया	सिरई
सैनिक 934 1	सिफ़ारिश करने वाला 841.38 ⇨	सीता 770 66	सिरहाना: पाटी 594.19
सिपाय	सिफ़ारिशानामा	सियापति	सिर उठाना
उंटडा 1076.20	परिचय स्थापना पत्र 704.6	राम 770.1	विद्रोह करना 903.14
परकोटा. अरुदब 604.16	सिफ़ारिशरी	सियापा	सिर: ऊर्ध्व भाग
सिपाह	सिफ़ारिशरी 841 37 ⇨	मृत्यु गीत 797 9	सहचार 757.6
सेना 932.1	सिमंत	मृत्यु विलाप 253.15	सिर कटाई
सिपाहगरी	सीमंत 223.18	मृत्यु शोक 253.14	सिर काट कर मृत्यु बंड 871.7
पुलिस कर्म 866 2	सिमट	सियापा करना	सिरका
सिपाही	सिकुडन 980.10	मृत्यु शोक करना 253.33	सिरका 277.15 ⇨
घपरासी 652.39	सिमटन	सियाम	सिर काट कर मृत्यु बंड
पुलिस 866.1	खिचन 392.9	रोज़े 748.6	सिर काट कर मृत्यु बंड 871.7 ⇨
पुलिस कर्मी 866.3	मुकुलन 120.1	सियार	सिरकी
पेदल सैनिक 934.7	सिकुडन 980.10	गीदङ 127.75	सिरकी 605.5 ⇨
प्रतिरक्षक 908.24	सिमटना	सियारनी	सिर के बाल
योद्धा 934 15	एकत्रित होना 667.6	मादा गीदङ 127.76	केश 137.1
रक्षक 908.20	मुकुलित होना 120.5	सियार लाठी	सिरछाप
सैनिक 934.1	लज्जा प्रदर्शन करना 845.7	अमलतास 13.3	अध्ययसायी 489 10
	संकुचित होना 980.15		

सर खपाई  
माथापच्ची 321.31  
सर गुंघाई  
सर गुंघाई 800.50 ⇨  
सरगुंधी  
सर गुंघाई 800 50  
सर घुटा [सिर घुटी]  
मुडित 798.44  
सर घुटाई  
मुडन सस्कार 798 18  
सर चकराना  
धुमेर आना 264 18  
सर चढ़ा [सिर चढ़ी]  
घुट्ट 734 20  
मुंहलगा [मुंहलगी] 428.23  
सर छिपाना  
शरण लेना 910 7  
सर छिपाने की जगह  
वक्ता गृह 601 2  
सरजक  
रघेता 527 14  
सरजनहार  
रघेता 527 14  
सृष्टि रघेता 529 5  
सरजनहारा  
ईश्वर 764.1  
ब्रह्मा 766 1  
शिव 767 1  
सृष्टि रघेता 529 5  
सरजनहारा [सिरजनहारी]  
रघेता 527 14  
सरजना  
आविष्कार करना 307 9  
उत्पादन करना 546.7  
गडना 545 22  
रघित करना 527 9  
सृष्टि बनाना 529 4  
सर: टैक  
सिराश्रय 596.30  
सरताज  
दल नायक 852.6  
पति 803.5  
सरतान  
लगान दाता 647 26  
सरती  
कृषि कर 647.24  
सरथन  
झाड़ू 218.17  
सरदर्द  
सरदर्द 392.6 ⇨  
हंगओवर 211.4  
सरदार  
नेता 346.2  
सर भुलाई  
केश प्रकालन 223.2  
सरनामा

सर: पट्टी  
केशबंध 223 9  
सर पर  
आसन्नत: 67 12  
उच्चत 982 12  
दायित्व पर 895 :4  
निकट भविष्य मे 36 35  
सर पर सवार होना  
मद प्रभाव होना 211.9  
सर पर हथ रखना  
संस्मरणपूर्ण सहायता करना 700.18  
सर पर होना  
आसन्न होना 67 7  
सर परिधान  
सर परिधान 584 1 ⇨  
सर: पूछ केश  
पूछ केश 137 4  
सरपेघ  
पगड़ी 584 13  
पगड़ी सरपेघ 584 26  
सरपेघ  
पगड़ी सरपेघ 584 26  
सर फुटीअल  
लट्ठम लट्ठा 905 24  
सरफेंटा  
पगड़ी सरपेघ 584 26  
सरबंद  
पगड़ी 584 13  
सर मुंडा [सिर मुंडी]  
केश मुडित 224 13  
सर मुंडाई  
केश मुडन 224 5  
सर: पैल  
केश मल 215.6  
सरनीर  
उच्चतम 982 8  
उत्तम 313 13  
प्रथम स्थानीय 707 11  
प्रधान 852 10  
प्रधान व्यक्ति 852 4  
महा अध्यक्ष 652 16  
सर्वोच्च सत्ताधारी 899.5  
सरयुक्त  
सरयुक्त 140.23 ⇨  
सरथा  
ओसाई चादर 548.24  
सर विषयक  
सर विषयक 140.22 ⇨  
सरसिराता [सिरसिराती]  
ठिठुरता [ठिठुरती] 105.24  
सरसिराना  
ठिठुरना 105.18  
सरहाना  
तकिया 593.63  
सरहाना 594.20 ⇨  
सरहाना: पाटी 594.19  
सिराश्रय 596.30

सरहाना: पाटी  
सरहाना पाटी 594.19 ⇨  
सरहीन  
सरहीन 140.24 ⇨  
सिरा  
उच्च भाग 982.5  
किनारा 1000 10  
छोर 1000.3  
नोक 270 8  
सिराना  
अतीत होना 63 5  
सिर पर होना 74 2  
शीतल करना 105 16  
सिराली  
मोर: कलगी 140 7  
हार सिंगार 13.27  
सिरावन  
पट्टेला 563.5  
सरहाना. पाटी 594.19  
सिराश्रय  
सिराश्रय 596 30 ⇨  
सरिंज  
सरिंज 1032.15 ⇨  
सरिंज (औं)  
सरिंज 1032 15  
सरिरी  
करघा 562 15  
रोली 225 17  
सरयुक्त 140 23  
सर विषयक 140 22  
सरिस  
शरीर 13 21  
सिरे का  
छोरस्थ 1000.15  
सिरे पर  
छोर पर 1000.16  
सिराना  
ईडुरी 584 2  
सिरारुह  
केश 137 1  
सिराही  
बक्र तन्वार 924.9  
सम्मान तलवार 857.19  
सिरा  
एकमात्र 946.20  
मात्र 946.19  
विशुद्ध 219.7  
सिरा एक  
एकमात्र 946.20  
सिरांडर  
सिरांडर 1078.21 ⇨  
सिरांडराकार पिंड 976.10  
सिरांडर (औं)  
सिरांडर 1078.21  
सिरांडर ईड  
सिरांडर ईड 1078.22 ⇨  
सिरांडर ईड (औं)  
सिरांडर ईड 1078.22

सिरांडराकार  
सिरांडराकार 976.23 ⇨  
सिरांडराकार पिंड  
सिरांडराकार पिंड 976.10 ⇨  
सिल  
घट्टान 99.14  
चौखट: अधोकाष्ठ 609.3  
नीर्व 607 12  
नीर्व पत्थर 607 13  
पाषाण 99 1  
पाषाण पटल 990.19  
सिल 560 18 ⇨  
सिलखड़ी  
सिलखड़ी 99.12 ⇨  
सिलगना  
दण्य होना 108.9  
सिलना  
संग्रहित करना 573.10  
सिलाई करना 577.23  
सिलपट  
समतल 986.9  
समतल भूमि 986.3  
सिल: बट्टा  
सिल: बट्टा 560.19 ⇨  
सिलबिल  
शिथिल 1045.13  
सिलबिला [सिलबिली]  
अप्रवीण 304 9  
फूहड़ 403.5  
मूर्ख 302.7  
सिलबिलापन  
कुपेशिता 589 5  
सिलसिला  
क्रम 991.1  
घटना चक्र 75.4  
तारतम्य 1049.3  
पक्ति 691 4  
परिपाटी 514 9  
वंश 727 1  
संदर्भ 437.3  
सिलसिला बंदी  
क्रमबद्धन 991.16  
पक्ति बद्धन 667.3  
सिलासिलेयार  
क्रमिक 991.21  
विषयपूर्वक 449.32  
सिलसिले से  
क्रमशः 991.28  
सिलह  
आयुध 922.1  
सिलह झाना  
शस्त्रागार 929.3  
सिलहदार  
आयुधजीवी 922.11  
शस्त्रधारी 930.6  
सिलहदारी  
सैनिकता 932.2

## सिलहबंदी

सिलहबंदी  
शस्त्र धारण 930 1  
सिलहारा  
उंचाहारी 204.11  
सिलहिला [सिलहिली]  
फिसलन युक्त 1084 47  
सिला  
पारिश्रमिक 643 8  
पुरस्कार 857 1  
प्रतिकूल 510.3  
सिला [सिली]  
संग्रहित 573 15  
सिला [सिली] 577.28 ⇨  
सिलाई  
जुजबंदी 418 2  
संग्रहण 573.1  
सिलाई 577.1 ⇨  
स्टिच 572.9  
स्टिचिंग 418.4  
सिलाई (वे.)  
आवदन 1013 1  
सिलाई करना  
सिलाई करना 577.23 ⇨  
सिलाई कर्मी  
सिलाई कर्मी 577.2 ⇨  
सिलाई टैकाई  
सिलाई 577 1  
सिलाई धैली  
दर्जी. धैली 673 15  
सिलाई: पिन  
स्टैपल 417 10  
सिलाई पिराई  
सिलाई 577.1  
सिलाजीत  
शिलाजीत 84 12  
सिलाह  
शाति काल 906 1  
सिलाहशोपी  
शस्त्र धारण 930.1  
सिलाहसाफ़  
शस्त्र निर्माता 929 9  
सिलाहसाज़ी  
शस्त्र निर्माण 929.1  
सिलाही  
आयुधजीवी 922.11  
सिलियारा  
उंचाहारी 204 11  
सिली  
पनडुब्बा 126.48  
सिलीपट  
स्लीपर 597.12  
सिल्लुपट (अँ)  
छायाकृति 405.2  
सिल्लिक छंद  
स्वानिक छंद 452.5  
सिली  
सिलो 670.17 ⇨

सिलो (अँ)  
सिलो 670 17  
सिलीट  
सिल 580 18  
सिलक (अँ)  
रेशम 588.12  
रेशमी वस्त्र 579.10  
सिल्लूनी  
कुदा 597 3  
ठीहा 598.12  
धातु पिंड सूची 876.12  
पाषाण पटल 990 19  
सिल्वर (अँ)  
घोंदी 95.3'  
घोंदी बरतन 680 14  
सिल्वर जुबिली (अँ)  
रजत जयंती 58.5  
सिल्वरवेअर (अँ)  
घोंदी बरतन 680 14  
सिल्व्यासा  
वक्व और नमर ह्केली. बज्जानी 28.41  
सिवइय्यो  
मीठी सिवइय्यो 203.29  
सिवइय्यो 192.17 ⇨  
सिवई  
सिवइय्यो 192.17  
सिया  
अतिरिक्त 945 4  
अधिक 944 5  
रहित 1007 3  
सियान  
ग्राम परिक्षेत्र 620 3  
सियाना  
ग्राम परिक्षेत्र 620 3  
सीमांत 1001 19  
सीमांत क्षेत्र 34 4  
सियाय  
अतिरिक्त 945 4  
रहित 1007.3  
सिविक हाइजीन (अँ)  
नागर सुजीविता 170 4  
सिविल इंजीनियरिंग (अँ)  
निर्माण अभियांत्रिकी 599 10  
सिविल नाक्करमानी  
असहयोग आंदोलन 904.3  
सिविल न्यायालय  
सिविल न्यायालय 874.7 ⇨  
सिविल मैरिज  
सिविल मैरिज 799 15 ⇨  
सिविल मैरिज (अँ)  
सिविल मैरिज 799 15  
सिविल बार (अँ)  
गृहयुद्ध 905.16  
सिविल सर्विस (अँ)  
राज्य सेवा 890.11  
सिविल सर्वेंट (अँ)  
राज्य सेवा कर्मी 890.12

सिवीय्यो  
सिवइय्यो 192.17  
सिवीय्यो इंद  
इंदुल फ़ितर 57.48  
सिसकना  
आह भरना 386.18  
सिसकना 386.24 ⇨  
सिसकार  
सीटी ध्वनि 296 15  
सिसकी  
सिसकी 386.10 ⇨  
सिसकी भरना  
सिसकना 386.24  
सिसकी लेना  
सिसकना 386 24  
सिसपा  
शीशम 13 22  
सिस्टर (अँ)  
नर्स 175.7  
सिस्टर्न (अँ)  
फलश. टकी 679 29  
सिहर  
सहम 395.3  
सिहरन  
कंपन 1039 11  
ठिठुरन 105 4  
भय कंपन 395 2  
सिहरना  
आतंकित होना 395 16  
कपित होना 1039 17  
ठिठुरना 105 18  
भय कपित होना 395 14  
रोमांचित होना 382 14  
सहमना 395.15  
स्पदित होना 1039 14  
सिहरा [सिहरी]  
रोमांचित 382 21  
सहमा [सहमी] 395.21  
सिहराता [सिहराती]  
स्पदित 1039 18  
सिहराना  
शीत काल होना 53 11  
सहलाना 393 15  
स्पदित होना 1039.14  
सिहरी  
ठिठुरन 105.4  
भय कंपन 395.2  
रोमांच 382.6  
सिहाना  
ईर्ष्या होना 709.3  
सिहारना  
खोज पाना 863.6  
सीक  
डंठल 114.1  
लॉग 228.24  
सीक 114.6 ⇨  
सीका  
केसर 115.11

छीका 676 10  
सीकिया  
क्षीणकाय 159 13  
सीकियापन  
क्षीणकायता 159 4  
सींग  
सींग 140.8 ⇨  
सींगका  
बारूद कुम्पी 678 11  
सींगदाना  
मूंगफली 191 12  
सींगदार  
सींगदार 140.25 ⇨  
सींगरी  
फली 116 3  
साग सम्प्री सूची 189 4  
सींगहीन  
सींगहीन 140.26 ⇨  
सींगिया  
सींगदार 140.25  
सींगी  
सिंघाड़ा मछली 125 14  
सींगदार 140 25  
सींधी  
सिंघाड़ा मछली 125 14  
सींध  
सिंधन 548 13  
सींधना  
आर्द्र करना 88.19  
संवरण करना 667 11  
सिंधन करना 548.38  
सी (अँ) (बीज रूप)  
सैलिसयस कम 103 7  
सी.आई.डी. (अँ)  
गुलघर 866 12  
सीआईडी (अँ)  
गुलघर्या विभाग 866.14  
सीकड़  
खूँटा 555.11  
शुंखला 569 26  
सीकर  
क्षीण वर्षा 54.9  
घीड़ 13.7  
तीव्र वर्षा 54 11  
फुहार 1032 9  
सीकर यंत्र  
फुहारा 1032.10  
स्नान फुहारा 221.18  
स्त्रेअर 1032 13  
सीका  
छीका 678.10  
सीक्युरिटी (अँ)  
प्रतिभूति 628.19  
प्रतिरक्षा 908.2  
सीक्युरिटी कॉमिल (अँ)  
सुरक्षा परिचद 443.17  
सीक्रेट एण्ट (अँ)  
गुप्तघर 866.12

सीख  
पट्टी पढ़ाई 332.9  
परामर्श 332.1  
सीख 332.6 ⇨  
सीख  
सीख 560.8 ⇨  
सीख कबाब  
सीख कबाब 206.36 ⇨  
सीखघा  
शलाका कपाट 609.9  
सीख 560.8  
सीख देना  
सीख देना 332.12 ⇨  
सीखना  
अनुभव प्राप्त करना 303.10  
अभ्यास करना 303.11  
शिक्षा अर्जन करना 321.34  
सीखा [सीखी]  
अनुभव 303.17  
अभ्यस्त 303.19  
प्रशिक्षित 321.46  
शिक्षाजित 321.49  
सीमा  
शीआ निकाह 799.4  
सभाग 937.1  
साँचा 565.18  
सीगिया  
सीगदार 140.25  
सीज  
सिम्जन 195.42  
सीजन (अं)  
ऋतु 51.13  
सीजर (अं)  
कैसर 882.12  
तानाशाह 882.28  
सीजल  
उत्तमतर 313.12  
सीझ  
सिम्जन 195.42  
सीझना  
तपस्या करना 756.25  
दग्ध होना 108.9  
दया आना 834.9  
दुखी होना 391.18  
सिम्जना 195.58  
जाव होना 1032.16  
सीझा [सीझी]  
सिझा [सिझी] 195.81  
सीट (अं)  
आसन 586.20  
कमोड 216.20  
कुरसी 595.23  
प्यू 745.25  
यान आसन 595.43  
यान सीट 1076.16  
वाहन आसन 595.42  
सीटी  
आरंभ संकेत सूची 521.8

सीटी 461.90 ⇨  
सीटी घनि 296.15  
सीटी ध्वनि  
सीटी ध्वनि 296.15 ⇨  
सीठना  
गाली गलीज 433.4  
गाली गीत 796.22  
सीठना 800.51 ⇨  
सीठनी  
सीठना 800.51  
सीठा  
ईख फोक 526.3  
फोक 526.2  
सीठा [सीठी]  
अस्वादिष्ट 275.21  
धीका [धीकी] 197.36  
रसहीन 84.18  
शुष्क 89.9  
स्वादहीन 275.16  
सीठापन  
स्वादहीनता 275.5  
सीठी  
ईख. फोक 526.3  
फोक 526.2  
सीठ फ़ॉर्म (अं)  
बीज. खेत 551.9  
सीठलिंग (अं)  
पीद 113.5  
सीठी (अं) (बीज नाम)  
कंपैक्ट डिस्क 300.18  
सीठी (अं) (बीज रूप)  
कंपैक्ट डिस्क 951.11  
सीठी  
अरथी 254.4  
पैकी 613.3  
सीठी 613.6 ⇨  
सीठी क्रम  
आरोह क्रम 991.3  
सीठी: डंडा  
सीठी: डंडा 613.9 ⇨  
सीठीदार घाट  
घाट 25.20  
सीठीदार रास्ता  
सोपान पथ 613.10  
सीठीदार स्टूल  
सीठीदार स्टूल 613.8 ⇨  
सीतल चीनी  
सीतल चीनी 281.31  
सीतला  
धेयक 183.9  
सीतला माई  
शीतला 774.91  
सीता  
कृषि देवी सूची 774.5  
जनक: पुत्री सूची 770.29  
जुता खेत 551.12  
राम: पत्नी 770.8  
लक्ष्मी 775.1

सीता 770.66 ⇨  
सीता 774.103 ⇨  
हल: फाल 563.12  
हल रेखा 551.20  
सीता (दे.)  
सीता 774.103  
सीतागोप्ता  
जुताई रक्षक 550.5  
सीता दुखियारी  
सीता 770.66  
सीता ब्रह्म  
कृषि उपकरण 563.1  
सीता द्वारा हत (अध्यात्म रामायण)  
महारावण 784.7  
सीताधर  
बलराम 771.74  
सीतानाथ  
राम 770.1  
सीता निवक  
दुर्मुख 770.39  
सीता: पिता  
जनक 770.28  
सीता पिता 770.68 ⇨  
सीता: पुत्र  
लय कुश 770.54  
सीताफल  
शरीफा 190.32  
साग सखी सूची 189.4  
सीता: बहन  
उर्मिला 770.19  
सीता: माता  
सीता: माता 770.87 ⇨  
सीता रक्षक  
जुताई रक्षक 550.5  
सीता रक्षण  
राम 770.1  
सीता राम  
सीता राम 770.89 ⇨  
सीता बल्लभ  
राम 770.1  
सीताश्रय  
वाल्मीकि 789.19  
सीता स्वयंवर  
रामलीला प्रसंग सूची 57.13  
सीता हरण  
रामलीला प्रसंग सूची 57.13  
सीतोदा  
पौराणिक नदी सूची 20.23  
सीत्कार  
सिसङ्गी 386.10  
सीत्य  
जुता खेत 551.12  
धान 187.11  
सीव  
साहूकारा 633.3  
सीध  
अवक्रता 974.2  
दिशानुगमन 1098.7

लक्ष्य 931.1  
समतलता 986.1  
सीध 974.9 ⇨  
सीध में  
सीधे 1098.32  
सीध में जाना  
दिशा न बदलना 1098.17  
सीधा  
अनपका भिक्वान्न 642.9  
सीधा खाना 197.5  
सीधा [सीधी]  
अर्धघल 860.25  
अनमित 1025.9  
अनलंकृत 227.5  
अपरिपाचित 195.66  
अभिधात्मक 426.29  
अवक्र 974.17  
आपृच्छशायी 1027.18  
आरोह क्रमिक 991.22  
उन्नमित 1025.7  
ऊर्ध्वमुख 1023.13  
खड़ा [खड़ी] 1029.11  
तीव्र चक्रानयुक्त 988.12  
दक्षिण पार्श्वीय 997.21  
दर्पहीन 859.8  
व्यवहार अकुशल 829.9  
समतल 986.9  
सरल 817.8  
सहज 518.14  
सुलझा [सुलझी] 574.15  
सीधा अनाज  
सीधा खाना 197.5  
सीधा उलटा  
विपरीतता उपमान सूची 310.13  
सीधा करना  
अवक्र करना 974.15  
सीधा क्रम  
आरोह क्रम 991.3  
सीधा खाना  
सीधा खाना 197.5 ⇨  
सीधापन  
अवक्रता 974.2  
ऊर्ध्वमुखता 1023.3  
खड़ापन 1029.3  
समतलता 986.1  
सरलता 817.2  
सुलझापन 574.6  
सीधा फल्ला  
सीधा फल्ला 586.19 ⇨  
सीधा फंदा  
निटिंग स्टिच सूची 572.14  
सीधा भाग  
दक्षिण पार्श्व 997.7  
सीधा रास्ता  
संक्षिप्त मार्ग 1063.4  
सीधा लेटना  
पीठ के बल सोना 1027.11

## सीधा सादा: [सीधी सादी]

सीधा सादा [सीधी सादी]  
सरल 817 8  
सीधा होना  
उठ खड़ा होना 1029.8  
ऊर्ध्वमुख होना 1023.7  
सीधी ओर  
दाहिने 1098 30  
सीधी गति  
सीधी गति 1098 10 ⇨  
सीधी गिनती  
आरोह क्रम 991 3  
सीधी तरफ  
दाहिने 1098 30  
सीधी तरह  
सज्जनतापूर्वक 817 12  
सीधी नज़र  
दया दृष्टि 834 3  
सीधी बात  
स्पष्टोक्ति 430 4  
सीधी राह  
चलनीय मार्ग 1063.2  
सुधर्म 735 4  
सीधी रेखा  
सीधी रेखा 968 16 ⇨  
सीधी शिकन  
क्रीड़ा 975.3  
सीधी स्थिति  
ऊर्ध्वमुखता 1023 3  
खड़ापन 1029 3  
सीधी स्थिति में  
ऊर्ध्वमुखतः 1023 17  
सीधी स्थिति में होना  
ऊर्ध्वमुख होना 1023 7  
सीधी स्थिति वाला  
ऊर्ध्वमुख 1023.13  
सीधे  
अनुदिशतः 1098.29  
अनुमार्गतः 1098.28  
आरोहत 991 29  
ऊर्ध्वमुखतः 1023 17  
सज्जनतापूर्वक 817 12  
सीधे 1098.32 ⇨  
सीधे जाना  
लक्ष्य पर जाना 931 18  
सीधे जाना वाला  
लक्ष्यानुगामी 931.22  
सीधे झूठ बात न करना  
कटु भाषण करना 432 8  
सीधे शस्त्र  
अनुमार्गतः 1098 28  
सीधे से  
सज्जनतापूर्वक 817 12  
सीधे हथ  
दाहिने 1098.30  
सीध (अँ)  
नाटक दृश्य 463.26  
मनोरंजक दृश्य 312 7

सीधरी (अँ)  
मंच सज्जा 471 18  
सीना  
गोंठना 577 25  
वक्ष 146 1  
संग्रथित करना 573 10  
सिलाई करना 577 23  
सीना उभार कर चलना  
अभिमान से चलना 1084 28  
सीनाघाक  
भग्नहृदय 391 33  
सीना घाक होना  
हृदय भंजित होना 391 22  
सीनाज़ोर  
घृष्ट 734 20  
हंकराबाज 734 23  
सीनाज़ोरी  
अधिकारहीनता 898 4  
छीना झपटी 635 8  
घृष्टता 734 8  
हंकरा 734 10  
सीनाबंद  
ऐप्रन 585 26  
घोली 585.38  
बा 587.5  
वास्कट 585 59  
सीनेट  
प्रबंध समिति 692 23  
सीनेट (अँ)  
राज्यसभा 889 3  
समिति 692 20  
सीने पर ताल ठोकना  
छाती ठोकना 917 6  
सीनेरियो (अँ)  
पटकथा 466.5  
सीन्योर (इतालवी)  
पुरुष उपाधि सूची 856.2  
सीन्योरा (इटली)  
विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856 6  
सीपी  
सीपी 124.19  
सीपज  
मोती 97 2  
सीपारा  
पारा 739 4  
सीपी  
सीपी 124.19 ⇨  
सीपीयू  
सीपीयू 951.20 ⇨  
सीपीयू (अँ) (बीज रूप)  
सीपीयू 951.20  
सी प्लेन (अँ)  
नीका विमान 1074.11  
सी बैंड (अँ)  
समुद्र नितल 985 11  
सीमंत  
सीमंत 223.18 ⇨  
सीमंतोन्नयन संस्कार 798.8

सीमंतक  
सिंदूर 225 18  
सीमंत भाग  
सीमंत भाग 223 19 ⇨  
सीमंत मणि  
चूड़ामणि 228 10  
टीका 228 14  
सीमंतोन्नयन  
सोलह संस्कार सूची 798 3  
सीमंतोन्नयन संस्कार  
सीमंतोन्नयन संस्कार 798.8 ⇨  
सीमन  
परिसीमन 1001 9  
सीमांकक  
सीमांकक 1001.38 ⇨  
सीमांकन  
सीमांकन 1001.13 ⇨  
सीमांकन करना  
सीमांकन करना 1001.31 ⇨  
सीमांकित  
धिरा [धिसी] 604 23  
सीमांकित 1001 37 ⇨  
सीमांकित करना  
सीमांकन करना 1001 31  
सीमांत  
ग्राम परिक्षेत्र 620 3  
चरम सीमा 1001.5  
सीमांत 1001.19 ⇨  
सीमांत क्षेत्र 34 4  
सीमांत क्षेत्र  
सीमांत क्षेत्र 34.4 ⇨  
सीमांत प्रदेश  
सीमांत 1001 19  
सीमांत प्रांत  
सीमांत प्रांत 27.24 ⇨  
सीमांतरता  
सीमांतरता 1001.24 ⇨  
सीमांतर प्रदेश  
सीमांतर प्रदेश 1001.26 ⇨  
सीमांतर स्थान  
सीमांतर स्थान 1001.25 ⇨  
सीमांतर्रीय  
सीमांतर्रीय 1001.40 ⇨  
सीमांतर्गतता  
सीमांतर्गतता 1001.21 ⇨  
सीमांतर्गत प्रदेश  
सीमांतर्गत प्रदेश 1001.22 ⇨  
सीमांतर्गत समुद्र क्षेत्र  
भूमागीय समुद्र 24 3  
सीमांतर्गत स्थान  
आंतरिक स्थान 33.5  
सीमांतर्गत स्थान 1001.23 ⇨  
सीमांत लेखा  
अंतिम छोर 1000.5  
सीमा  
अंतिम दिन 39 4  
इतनापन 946.2  
छोर 1000 3  
पराकाष्ठा 534.3  
परिधि 972 4  
परिसीमा 1001 8  
बाड़ 604 10  
भार क्षमता 966.5  
मर्यादा 808 5  
मात्रा 946 3  
सीमांत 1001 19  
सीमा 1001 1 ⇨  
सीमा रेखा 1001 17  
सीमा के इस ओर  
सीमा के इस ओर 1001 45 ⇨  
सीमा के उस पार  
सीमा के उस पार 1001.46 ⇨  
सीमा चिह्न  
सीमा चिह्न 1001 15 ⇨  
सीमा चौकी  
अग्र चौकी 933 10  
सीमा तक  
सीमा तक 1001 44 ⇨  
सीमातिक्रमण  
सीमातिक्रमण 1001.27 ⇨  
सीमातिक्रमण करना  
सीमातिक्रमण करना 1001.32 ⇨  
सीमातिक्रामक  
अतिक्रामक 1001 42  
सीमातीत  
अपरिभाष्य 317.20  
असख्य 944 8  
असीम 1001.34  
सीमांतरीय 1001 40  
सीमातीतता  
अत्यधिकता 944 2  
अपरिभाष्यता 317.4  
सीमांतरता 1001 24  
सीमाधिप  
सीमा रक्षक 908.28  
सीमा न होना  
असीम होना 1001 30  
सीमा निर्धारक  
सीमांकक 1001.38  
सीमा निर्धारण  
सीमा निर्धारण 1001.12 ⇨  
सीमा परकोटा  
सीमा परकोटा 604.19 ⇨  
सीमा परिभाषण  
सीमा निर्धारण 1001.12  
सीमा पर्वत  
सीमा पर्वत 1001.16 ⇨  
सीमा पार  
सीमा के उस पार 1001 46  
सीमाभाल  
सीमा रक्षक 908.28  
सीमा बंधन  
सीमांकन 1001.13  
सीमाब  
पारा 94.9

सीमाबद्ध  
परिसीमित 1001.35  
सीमाबद्ध आकृति  
ज्यामितीय आकृति 989 1  
सीमाबद्धता  
ससीमता 1001.2  
सीमा भित्ति  
सीमा परकोटा 604 19  
सीमा माप  
सीमा माप 958.15 ⇨  
सीमा में  
सीमा के इस ओर 1001 45  
सीमायुक्त  
परिसीमित 1001.35  
साकार 967 12  
सीमायुक्तता  
साकारता 967.1  
सीमारंभ  
सीमारंभ 1001.18 ⇨  
सीमा रक्षक  
सीमा रक्षक 908.28 ⇨  
सीमा रेखा  
मर्यादा रेखा 808 6  
विभाजन रेखा 699 6  
सीमा रेखा 1001 17 ⇨  
सीमा स्तंभना  
सीमातिक्रमण करना 1001 32  
सीमावरोध  
सीमा निर्धारण 1001 12  
सीमावर्ती भूभाग  
सीमात क्षेत्र 34 4  
सीमा शिला  
सीमा चिह्न 1001 15  
सीमा शुल्क  
तट कर 647 19  
सीमा सम्मान  
सीमा सम्मान 1001.28 ⇨  
सीमाहीन  
अपरिसीमित 1001 36  
असंख्य 944 8  
असीम 1001 34  
निराकार 967 13  
सीमाहीनता  
अत्यधिकता 944 2  
अपरिसीमितता 1001.11  
असीमता 1001 3  
निराकारता 967 2  
सीमा होना  
ससीम होना 1001 29  
सीमिका  
चींटी 122.20  
दीमक 122.29  
सीमित  
परिसीमित 1001.35  
मात्रा में नियत 946 17  
संकीर्ण 980.29  
समाप्य 942.21  
संख्य 942.22

ससीम 1001 33  
सीमांकित 1001.37  
सीमित आकृति  
ज्यामितीय आकृति 969 1  
सीमित काल  
नियत काल 39  
सीमितता  
इतनापन 946 2  
परिसीमितता 1001 10  
संकीर्णता 980 11  
समाप्यता 942 7  
ससीमता 1001 2  
सीमित देयता कंपनी  
लिमिटेड कंपनी 692 5  
सीमित मात्रा  
इतनापन 946 2  
सीमित होना  
ससीम होना 1001 29  
सीमिया  
जादूगरी 474 9  
सीमी  
सिचइयों 192.17  
सीमी 200.13 ⇨  
सीमेट  
चेपय्य सूची 1012 4  
सीमेट 599 35 ⇨  
सीमेतर क्षेत्र  
सीमेतर क्षेत्र 34.5 ⇨  
सीमेतर भूभाग  
सीमेतर क्षेत्र 34 5  
सीमेतर समुद्र  
खुला समुद्र 24 2  
सी मेल (अं)  
समुद्री डाक 444 26  
सीमेट (अं)  
सीमेट 599 35  
सीमेट पटल  
सीमेट पटल 990.21 ⇨  
सीमोल्संधक  
अतिक्रामक 1001 42  
आक्रांता 914 20  
सीमोल्संधन  
सीमातिक्रमण 1001.27  
सीयन  
स्टिच 572 9  
सीयरा [सीयरी]  
ठडाठार 197 42  
सीर  
खुदकारत कृषि 553 19  
शीतल 105.19  
हल 563.8  
सीरत  
घरित्र 810.1  
लक्षण 317.5  
सद्गुण 313 6  
सीरध्वज  
जनक 770.28  
बलराम 771.74

सीरध्वज: पुत्री  
उर्मिला 770.19  
सीरपाणि  
बलराम 771.74  
सीरवाह  
हलवाहा 548 4  
सीर  
सिरहाना 594.20  
सीरा [सीरी]  
ठडाठार 197 42  
सीरायुध  
बलराम 771 74  
सीरियल (अं)  
धारावाही 447.26  
धारावाही रचना 447 14  
सीरी  
बलराम 771.74  
सीरीज़ (अं)  
क्रम 991.1  
धारावाही 447 26  
पुरतक माला 446.32  
सीरी फ़ोर्ट  
दिल्ली 28 42  
सीस  
आर्द्रता 88 16  
सील 124.9 ⇨  
सील (अं)  
ठप्पा 414 12  
मुदाक 414 17  
सील 124 9  
सील का कूड़ा  
सील का कूड़ा 798.29 ⇨  
सीसन  
आर्द्रता 88 16  
सीसन-दार  
आर्द्र 88 27  
सीसनदार 88.29 ⇨  
सीसना  
सीसना 88.20 ⇨  
सील भरा  
सीसनदार 88 29  
सीस,  
उंच धान्य 548.27  
डठल से झरका अनाज़ 187 4  
सीला [सीली]  
आर्द्र 88.27  
सीसनदार 88.29  
सीला बीनना  
उँछाई करना 548.42  
सीला होना  
सीसना 88.20  
सीलिंग (अं)  
भीतरी छत 611.20  
मुहरबंदी 414 18  
सी लैबल (अं)  
समुद्र उतल 985.8  
सीलोन (अं)  
श्रीलंका 27.17

सीलोगी  
श्रीलंकाई 27.30  
सील्ड (अं)  
मुहरबंद 414.25  
सीवन  
संग्रथन 573.1  
सिलाई 577.1  
स्टिच 572.9  
सीवनहार  
सिलाई कर्मी 577.2  
सीवनहारा [सीवनहारी]  
सिलाई कर्मी 577.2  
सीवनी  
सूई 562.23  
सीवर (अं)  
भूमिगत नाला नाली 23.7  
सीवी  
सिचइयों 192.17  
सीमी 200.13  
सीकेज़ (अं)  
भूमिगत नाला नाली 23.7  
सीस  
नीकाग्र 1073 23  
सीसा 94.14  
सीसक  
सीसा 94.14  
सीसपत्रक  
सीसा 94.14  
सीसकूल  
पूड़ागणि 228.10  
सीसम  
शीशाम 13.22  
सीसा  
अष्टधातु सूची 93.6  
साहुल 559 52  
सीसा 94.14 ⇨  
सी सी करना  
घरपरा लगना 278.10  
सी सी (अं)  
दोलन झुला 1034.14  
सीसी गति  
डंकुल गति 1035.5  
सी सी झुला (अं)  
दोलन झुला 1034.14  
सुंधनी  
नसवार 213.5  
सुंडा  
कीट सूची 122.12  
सुंडाल  
सुँरुदार 142.8  
सुंडेल  
सुँरुदार 142.8  
सुंद  
वानर सूची 781.7  
विष्णु 768 1  
सुंद उपसुंद  
असुरादि जोड़ी सूची 783.4

## सुंदर

### सुंदर

- उत्तम 313.11  
कलापूर्ण 402.3  
कामदेव 773.12  
विष्णु 768.1  
सुंदर 157.7 ⇨  
सुरीला [सुरीली] 459.38  
सुंदर [सुंदरी]  
सुंदरकाय 158.11  
सुंदर (दे.)  
सुडील 155.4  
सुंदर कांड  
रामचरित मानस कांड 770.16  
शालीकि उभावप कांड सूची 770.14  
सुंदरकाय  
सुंदरकाय 158.11 ⇨  
सुंदर काया  
सुंदर काया 158.1 ⇨  
सुंदर केश  
सुंदर केश 137.12 ⇨  
सुंदर केश बाला  
सुंदर केश बाला 137.24 ⇨  
सुंदर जंघा बाला  
सुंदर जंघा बाला 137.33 ⇨  
सुंदरता  
कलापूर्णता 402.1  
सुंदरता 157.1 ⇨  
सुंदरता (दे.)  
शोभा 226.1  
सुडीलता 155.2  
सुंदरताई  
सुंदरता 157.1  
सुंदर नयन  
सुंदर नयन 158.4 ⇨  
सुंदर नेत्र  
सुंदर नयन 158.4  
सुंदर बाहु  
सुंदर बाहु 158.8 ⇨  
सुंदर भाव  
अर्थालंकार 454.2  
सुंदर भाषा  
शब्दालंकार 454.8  
सुंदर मुख  
सुंदर मुखकृति 158.2  
सुंदर मुखकृति  
सुंदर मुखकृति 158.2 ⇨  
सुंदर रंग बाला  
सुंदर रंग बाला 289.31 ⇨  
सुंदर लिखना  
सुलेखन करना 412.38  
सुंदर शरीर  
सुंदर काया 158.1  
सुंदर शरीरी  
सुंदरकाय 158.11  
सुंदर स्त्री  
सुंदर स्त्री 157.2 ⇨  
सुंदरी  
अप्सरा 782.2

- दुर्गा 776.7  
परी 782.4  
सवैया 452.18  
सुंदर स्त्री 157.2  
हलदी 281.38  
हूर 782.7  
सुंवा  
दीवार: खूँटी 1016.17  
सुंवा 559.36 ⇨  
सुजा 562.28  
सुंवी  
छेनी 559.20  
सुंवा 559.36  
सुंभा  
सुंवा 559.36  
सु-  
अच्छा: उपसर्ग सूची 313.19  
सुअटी  
मादा तोता 126.45  
सुअन  
पुत्र 718.3  
सुअना  
तोता 126.44  
सुअनी  
मादा तोता 126.45  
सुअवसर  
उपयुक्त अवसर 70.3  
सुआ  
तोता 126.44  
सुजा 562.26  
सुआशिनी  
सुहागन 803.13  
सुई  
सुई 562.23  
सुकंठ  
सुग्रीव 781.17  
सुरीला [सुरीली] 459.38  
सुकंठता  
सुरीलापन 459.34  
सुकंदक  
प्याज़ 281.24  
सुकथन  
सुवधन 431.1  
सुकथित  
सूक्ति 434.2  
सुकर  
सहज 518.14  
सुकरता  
सहजता 518.1  
सुकर्म  
सत्कर्म 814.2  
सुकर्मा  
पुण्य कर्ता 814.5  
विश्वकर्मा 773.44  
सत्कर्मी 814.6  
सुकर्मी  
सच्यरित्र 810.5  
सत्कर्मी 814.6

### सुकल्पित

- कलापूर्ण 402.3  
सुकवि  
अच्छा कवि 448.15  
सुकांत  
अति सुंदर 157.8  
सुकांता  
सुंदर स्त्री 157.2  
सुकाज  
उत्तम कार्य 506.4  
सुकानी  
कर्णधार 1080.19  
नाविक 1080.21  
सुकाय  
सुंदरकाय 158.11  
सुकार्य  
उत्तम कार्य 506.4  
सत्कर्म 814.2  
सुकार्यता  
सहजता 518.1  
सुकाल  
उन्नति काल 534.2  
उपयुक्त अवसर 70.3  
मंगल काल 796.3  
सुकीर्ति  
ख्याति 847.1  
शिव 767.1  
सुकुमार  
किशोर 230.28  
कोमलांग 159.9  
मृण्मय 545.34  
शिव 767.1  
सवेदनशील 393.18  
सुकुमारता  
काव्य गुण सूची 453.4  
किशोर अवस्था 230.27  
कोमलता 269.4  
कोमलांगता 159.1  
मृण्मयता 545.19  
सुकुमार बन  
देवता. उद्यान सूची 772.13  
सुकुमारी  
किशोरी 230.29  
कोमलांगिनी 159.10  
सीता 770.66  
सुकुल  
ज्ञातवंश 727.37  
सुकुन  
प्रशमता 372.2  
राहत 171.12  
सतोष 360.5  
सुकुनत  
निवासिता 616.1  
निश्चलता 1038.2  
सुकुनती  
आयासीय 618.22  
सुकृत  
कलापूर्ण 402.3

- पुण्य 814.1  
सुडील 155.4  
सुविन्यस्त 527.23  
सोभाग्यशाली 260.33  
सुकृतता  
कलापूर्णता 402.1  
सुकृतार्थ  
कृतज्ञ 833.8  
सुकृति  
सोभाग्य 260.17  
सुकृती  
त्वष्टा 773.30  
सत्कर्मी 814.6  
सुकृत्य  
उत्तम कार्य 506.4  
सत्कर्म 814.2  
सुकेशु  
दानय सूची 783.13  
सुकेश  
दानय सूची 783.13  
सुकेशा  
गधर्व. स्त्री सूची 778.8  
सुकेशी  
अप्सरा सूची 782.3  
सुकेशी [सुकेशिनी]  
सुंदर केश बाला 137.24  
सुकेशर  
सिंह 127.50  
सुकोमल  
कोमलांग 159.9  
संवेदनशील 393.18  
सुकोमलता  
कोमलांगता 159.1  
सुककान  
कर्ण 1073.2  
नीका 1072.2  
विमान दिशा नियता 1074.25  
सुकृतु  
सोम देव 773.49  
सुखंकर  
आनंदप्रद 382.18  
सुखद 390.11  
सुखंगी  
सुखंडी 163.36  
सुखंडी  
शीणकाय 159.13  
मांसहीन 132.19  
सुखंडी 163.36 ⇨  
सुख  
राहत 171.12  
संतोष 360.5  
सुख 390.2 ⇨  
सुविधा 518.3  
सोभाग्य 260.17  
सुख (शब्दार्थ)  
नूड 791.15  
सुखकंद  
आनंदप्रद 382.18



सुखद 390.11  
 सुखकर  
 सहज 518.14  
 सुखकारी  
 सुखद 390.11  
 सुख का साथ  
 सस्वार्थ मित्रता 705.7  
 सुख की नींव  
 सुख निद्रा 266.5  
 सुख धन  
 आनंद मंगल 382.3  
 सुशासितता 893.3  
 सुखाता  
 आनंद मंगल 382.3  
 कल्याण 710.2  
 सुखाद  
 सुखद 390.11  
 सुखद (दे.)  
 प्रसन्नताप्रद 381.9  
 सुखदता  
 सुखदता 390.7  
 सुखद बयार  
 बयार 85.14  
 सुखद लगना  
 सुखद लगना 390.9  
 सुखद वस्तु  
 सुखद वस्तु 390.3  
 सुखादा  
 अप्सरा 782.2  
 देवसेना 774.47  
 सुखदाता [सुखदात्री]  
 सुखद 390.11  
 सुख दायक  
 सुखद 390.11  
 सुखदायी [सुखदायिनी]  
 सुखद 390.11  
 सुख दुःख  
 विपरीतता. उपमान सूची 310.13  
 सुख दुःख 390.1  
 सुख दुःख  
 सुख दुःख 390.1  
 सुख दुःख का साथी  
 निस्वार्थ मित्र 705.10  
 सुख धाम  
 सुखद 390.11  
 सुख धाम 390.4  
 स्वर्ग 259.1  
 सुखन  
 उक्ति 434.1  
 काव्य 451.7  
 वचन 339.15  
 सुखन तकिया  
 तकिया क़लाम 424.14  
 सुखनकहम  
 काव्य प्रेमी 400.19  
 विद्वान 319.8  
 सुखनवर  
 कवि 448.13

सुखनसाज  
 वार्तालाप कुशल 435.25  
 सुख निद्रा  
 सुख निद्रा 266.5  
 सुखपर  
 विश्राम प्रेमी 490.12  
 सुखप्रद  
 आनंदप्रद 382.18  
 सुखद 390.11  
 सुख प्रश्न  
 कुशल प्रश्न 710.7  
 सुखभागी  
 सुखी 390.10  
 सुखभाजन  
 सुखी 390.10  
 सुख भोग  
 अधर्म गुण सूची 773.34  
 संसार भोग 363.5  
 सुखभोगी  
 आनंदशील 382.19  
 सुख भोगी  
 विलासी 363.20  
 सुख भोजन  
 स्वादिष्ट आहार 197.11  
 सुख भ्रति  
 सुख भ्रति 342.2  
 सुखमन  
 सुषुम्ना नाकी 757.5  
 सुखमस्तु  
 शुभमस्तु 710.31  
 सुखमानी  
 संतोषशील 360.19  
 सुखराशि  
 सुखी 390.10  
 सौभाग्यशाली 260.33  
 सुखरासी  
 सुखी 390.10  
 सौभाग्यशाली 260.33  
 सुख लिप्ता  
 भोग लिप्ता 385.4  
 सुखवंत  
 विलासी 363.20  
 सुखद 390.11  
 सुखी 390.10  
 सुखवन  
 शुष्कन 89.2  
 सुखवर्षक  
 सज्जी 87.17  
 सुखबा  
 सुख 390.2  
 सुखवास  
 सुख धाम 390.4  
 सुख शय्या  
 पुष्य शय्या 594.3  
 सुख शांति  
 आनंद मंगल 382.3  
 शांति 372.1  
 सुरक्षा 908.4

सुशासितता 893.3  
 सुख संगी  
 विलासी 363.20  
 सुख संपत्ति  
 समृद्धि 628.1  
 सुख सागर  
 कृष्णकथा: ग्रंथ सूची 771.21  
 सुख धाम 390.4  
 सुख सुविधा भोगी  
 विलासी 363.20  
 सुख सौभाग्य  
 कल्याण 710.2  
 समृद्धि 628.1  
 सुख स्वच्छंदता  
 अलमस्ती 382.7  
 सुख होना  
 सुखी होना 390.8  
 सुखांत  
 कौमेडी 463.4  
 सुखा  
 पुण्य 814.1  
 सुखाई  
 शुष्कन 89.2  
 सुखाई 220.17  
 सुखाधार  
 सुखद 390.11  
 सुखान खंभा  
 कुदास 1073.26  
 सुखाना  
 शुष्क करना 89.6  
 सुखानी  
 नाविक 1080.21  
 सुखानुभूति  
 आनंद 382.1  
 सुखायन  
 सहज तुष्ट 374.21  
 सुखार्थी  
 विलासी 363.20  
 सुखारा  
 वरुण 773.43  
 सुखाशय  
 सुख धाम 390.4  
 सुखासक्त  
 विलासी 363.20  
 सुखासक्ति  
 विलासप्रियता 363.7  
 सुखासन  
 आराम कुर्सी 595.24  
 पद्मासन 756.20  
 पालकी 1071.24  
 सुखासिका  
 आनंद मंगल 382.3  
 सुखिता  
 आनंद 382.1  
 आनंद मंगल 382.3  
 सुखिया  
 सुखी 390.10

सुखी  
 शिव 767.1  
 समृद्ध 626.11  
 सुखी 390.10  
 सुखी (दे.)  
 प्रसन्न 381.7  
 सुखी परिवार  
 नियोजित परिवार 240.3  
 सुखी होना  
 सुखी होना 390.8  
 सुखच्छा  
 भोग लिप्ता 363.4  
 सुखोत्सव  
 मंगलोत्सव 796.1  
 सुखोपभोग  
 विलास 363.6  
 सुखोपभोग बाब  
 भोगवाद 760.21  
 सुखोपभोगी  
 विलासी 363.20  
 सुखोष्ण  
 अल्प उष्ण 104.21  
 सुख्यात  
 ख्यात 847.3  
 सुख्याति  
 ख्याति 847.1  
 सुगंध  
 सुगंध 273.4  
 सुगंध उपभोग  
 सुगंध उपभोग 274.1  
 सुगंधक  
 ककोडा 189.8  
 सुगंध धारण  
 सुगंध उपभोग 274.1  
 सुगंधन  
 सुगंधन 274.2  
 सुगंध पत्री  
 जावित्री 281.17  
 सुगंधपूर्ण  
 सुगंधपूर्ण 273.15  
 सुगंध प्रयोग  
 सोलह सिंगार सुखी 222.3  
 सुगंध फैलाना  
 सुगंध फैलाना 273.8  
 सुगंध लेप  
 सुगंध लेप 274.3  
 सुगंध बर्ष  
 सुगंधार्पण 1059.22  
 सुगंधव्य  
 सुगंधव्य 274.4  
 सुगंध सान्नी  
 सुहाग पुका 802.7  
 सुगंध सार  
 इत्र 274.8  
 सुगंधा  
 चीड़ 13.7  
 तुलसी 13.9

## सुगंधार्पण

### सुगंधार्पण

सुगंधार्पण 1059.22 ⇨

### सुगंधि

इत्र 274.8

चंदन 274.20

सुगंध 273.4

सुगंधय्य 274.4

सैट 274.7

### सुगंधिक

गौडर घास मूल 112.15

### सुगंधिका

कस्तूरी 274.15

### सुगंधित

सुगंधपूर्ण 273.15

सुगंधित 274.31 ⇨

### सुगंधित करना

सुगंधित करना 274.30 ⇨

### सुगंधित तेल

फुलेल 274.6

### सुगंधि मरीचम

शीतल चीनी 281.31

### सुगंधिमूल

मूली 189.32

### सुगणित

सुगणितकाय 180.13

सुडील 155.4

सुविन्यस्त 527.23

### सुगणितकाय

सुगणितकाय 180.13 ⇨

### सुगणित कायता

सुगणित कायता 180.8 ⇨

### सुगणितता

सुडीलता 155.2

### सुगण

सुडील 155.4

सुविन्यस्त 527.23

### सुगणता

सुडीलता 155.2

### सुगणक

कंप्यूटर 951.1

### सुगत

गीतम बुद्ध 783.1

पारगत 1097.15

बोध प्राप्त 301.29

बौद्ध धर्मावलंबी 737.7

मोक्षगत 257.7

शिव 787.1

### सुगत शासन

बौद्ध धर्म 737.6

### सुगत सिद्धांत

बौद्ध धर्म 737.6

### सुगतायसन

बौद्ध मठ 745.12

### सुगतालय

बौद्ध मंदिर 745.39

बौद्ध मठ 745.12

### सुगति

सुख 390.2

### सुगतीय

बुद्ध विषयक 793.17

### सुगना

तोता 126.44

सहजन 13.24

### सुगनुगाता [सुगनुगाती]

कुलबुलाता [कुलबुलाती] 392.23

### सुगनुगाना

कुलबुलाना 392.17

### सुगनुगाहट

कुलबुलाहट 392.2

### सुगभस्ति

त्वष्टा 773.30

### सुगम

बोध्य 518.17

सहज 518.14

### सुगमता

सहजता 518.1

सुलभता 943.2

### सुगम संगीत

सुगम संगीत 457.25 ⇨

### सुगाध

गाध्य 984.9

### सुगाध्य

गाध्य 984.9

### सुगायक

कुराल गायक 460.18

### सुगीत

बहुचर्चित 436.10

सुगम संगीत 457.25

### सुगुही

बया 126.57

### सुग्गा

तोता 126.44

### सुग्गी

मादा तोता 126.45

### सुग्गीय

इंद्र 773.5

वानर सूची 781.7

शंख 461.78

सुग्गीय 781.17 ⇨

हंस 126.78

### सुग्गीयः भाई

बाली 781.13

### सुग्गीयः मंत्री

जांबवान 781.10

### सुग्गीयः वैद्य

सुवेण 781.18

### सुग्गीया

अप्सरा सूची 782.3

सुग्गीयाप्रज्ञ

बाली 781.13

### सुग्गीवेश

राम 770.1

### सुघट

सुविन्यस्त 527.23

### सुघटित

सुविन्यस्त 527.23

### सुघट्टन

कुटाई 986.6

### सुघट्टित

कुटा [कुटी] 986.10

### सुघट्य

गठनीय 545.30

### सुघङ्क

कलापूर्ण 402.3

प्रवीण 303.22

सुडील 155.4

सुविन्यस्त 527.23

### सुघङ्कता

कलापूर्णता 402.1

सुडीलता 155.2

### सुघर

सम्य 733.13

सुडील 155.4

### सुघरई

प्रवीणता 303.8

बुद्धिमत्ता 301.5

### सुघराई

सुडीलता 155.2

### सुघोष

बोधिसत्त्व सूची 793.16

### सुघरित्र

धर्मशीलता 735.2

### सुघाना

वेताकनी देना 917.10

### सुघारु

कलापूर्ण 402.3

सुंदर 157.7

सुडील 155.4

सुसंघालित 655.17

सुसंघालिततः 655.24

### सुघारुतः

सुसंघालिततः 655.24

### सुघालन

सुसंघालन 655.2

### सुघालित

सुसंघालित 655.17

### सुघालिततः

सुसंघालिततः 655.24

### सुघितन

विमर्शन 330.12

### सुघिता

परामर्श 332.1

### सुघितित

विमर्शित 330.28

### सुघित

निश्चित 378.8

स्थिरचित 355.6

### सुघिर

दीर्घ काल 37.5

दीर्घ कालीन 37.10

प्राचीन 63.6

### सुघुटी

धिमटा 580.8

सैकसा 580.7

### सुघेता

कल्याण कामी 710.23

बुद्धिमान 301.21

विशालहृदय 817.11

स्थिरचित 355.6

### सुघेलक

मगल परिधान 796.6

### सुघ्छत्रा

सतलज 20.20

### सुघ्छाय

आभायुक्त (रत्न) 98.11

### सुजंघ

सुंदर जंघा वाला 158.33

### सुजन

सज्जन 817.7

स्वजन 725.1

### सुजनता

दयालुता 834.4

सच्चरित्रता 810.2

### सुजनी

सुजनी फ़र्शी चादर 593.31

सुजनी फ़र्शी चादर

सुजनी फ़र्शी चादर 593.31 ⇨

### सुजन्ना [सुजन्नी]

उच्च कुलीन 728.15

वैद्य 716.19

### सुजल

जलबहुल भूमि 25.4

जलक्रांतयुक्त 21.34

### सुजला

जलबहुल भूमि 25.4

### सुजागर

आलोकित 285.45

तेजोमंडित 839.11

दीप्त 287.34

### सुजात [सुजाता]

उच्च कुलीन 728.15

वैद्य 716.19

### सुजाता

गोपी चंदन 100.14

सुजाता 793.14 ⇨

### सुजाति

उच्च कुल 728.2

उच्च वर्ण 731.6

### सुजातीय

अच्छी नस्ल का 243.18

उच्च कुलीन 728.15

### सुजान

ईश्वर 784.1

कला प्रेमी 400.17

गुणज्ञ 305.34

ज्ञानी 305.30

पूर्णविद्य 318.5

प्रवीण 303.22

बुद्धिमान 301.21

विद्य 318.4

विद्वान 319.8

सुस्वभावी 837.10

**सुजित**  
जयश्रील 912.16

**सुजीविक**  
सुजीवितापूर्ण 170.11

**सुजीविता**  
सुजीविता 170.2 ⇨  
सुजीवितापूर्ण  
सुजीवितापूर्ण 170.11 ⇨

**सुज्ञान**  
विद्य 318.4  
विद्वान 319.8

**सुज्ञानी**  
ज्ञानी 305.30  
पूर्णविद्य 318.5

**सुज्ञाना**  
परामर्श देना 332.10  
सुज्ञाव देना 332.11

**सुज्ञाव**  
परामर्श 332.1  
पहेली संकेत 333.16  
प्रस्ताव 329.1  
सुज्ञाव 332.5 ⇨

**सुज्ञाव देना**  
सुज्ञाव देना 332.11 ⇨

**सुज्ञायपूर्ण**  
सुज्ञायपूर्ण 332.16 ⇨

**सुट्टा**  
कश 213.15

**सुठीर**  
उपयुक्त स्थान 70.5

**सुकक**  
सुडक 207.8 ⇨

**सुककी**  
सुडक 207.8

**सुडोल**  
सुडोल 155.4 ⇨

**सुडोलता**  
सुडोलता 155.2 ⇨

**सुडर**  
सुडोल 155.4

**सुतत्रि**  
तालयुक्त 458.59

**सुत**  
जन्मा [जन्मी] 248.10  
पुत्र 718.3  
अयित 83.16  
अयित 1032.26

**सुत [सुता]**  
उत्पन्न 546.9

**सुत जाना**  
क्षीणकाय होना 159.7

**सुतका**  
नखः पार्श्व त्वचा 150.25

**सुतदा**  
ककोडा 189.8

**सुतनु**  
सुडोल 155.4

**सुतनुज**  
पुत्रवान 239.11

**सुतपा**  
तपस्वी 789.14

**सुतर**  
सुपारगम्य 1097.20

**सुतरण**  
सुपारगम्य 1097.20

**सुतरां**  
असख्य 944.8  
इस लिए 507.10  
और भी 945.11  
साराशः उक्ति सूची 449.34

**सुतर्क**  
सुतर्क 325.2 ⇨

**सुतर्कित**  
तर्कित 325.23

**सुतल**  
नाग निवास 778.15  
सात पाताल सूची 258.8

**सुतली**  
सन डोरी 570.4

**सुतहर**  
शिल्पकार 557.10

**सुतही**  
सीपी 124.19

**सुता**  
पुत्री 718.10

**सुतात्मज**  
धेवता 722.36

**सुतादान**  
कन्यादान 800.7

**सुतार**  
अत्युच्च 982.10  
काष्ठ कर्मी 597.24  
त्वष्टा 773.30  
शिल्पकार 557.10

**सुतारा**  
अप्सरा सूची 782.3

**सुतारी**  
काष्ठ कर्म 597.23  
सूजा 562.26

**सुतार्य**  
सुपारगम्य 1097.20

**सुतिनी**  
पुत्रवती 239.12

**सुती**  
पुत्रवान 239.11

**सुतीर्थ**  
तीर्थ स्थान 1089.10  
सद्गुरु 323.5  
सुयम 735.4  
सुपारगम्य 1097.20

**सुतुंग**  
गगनसुधी 982.11

**सुतुंग**  
आधार स्तंभ 607.8  
स्तंभ 607.7

**सुपार**  
भार पशु 127.5

**सुतेजा**  
शक्तिशाली 487.20

**सुतोष**  
सहज आराध्य 400.23

**सुस**  
त्रिपिटक. भाग सूची 740.4

**सुत पिटक**  
सुत पिटक 740.5 ⇨

**सुत्थन**  
पाजामा 586.7

**सुभ्रामा**  
इंद्र 773.5  
सकट मोघक 910.10

**सुधना**  
पञ्चमिया 587.9  
पाजामा 586.7

**सुधनिया**  
जनाना डीला पाजामा 586.8

**सुधनी**  
जनाना डीला पाजामा 586.8

**सुधरा [सुधरी]**  
परिष्कृत 537.9  
स्वच्छ 218.33

**सुधरापन**  
स्वच्छता 218.1

**सुधरी जवान**  
परिष्कृत भाषा 421.27

**सुधरेशाही सिख**  
सुधरेशाही सिख 737.26 ⇨

**सुईभ**  
जेय 518.20

**सुदम**  
जेय 518.20

**सुदर्श**  
सुदूरय 282.22

**सुदर्शन**  
कृष्ण चक्र 771.16  
बोधिसत्त्व 793.15  
विष्णु 786.1  
शिव 767.1  
सुंदर 157.7  
सुमेरु 17.17

**सुदर्शन चक्र**  
दिव्यास्त्र सूची 928.2  
सुदर्शन चक्र 928.3 ⇨

**सुदर्शन चक्रधारी**  
सुदर्शन चक्रधारी 928.9 ⇨

**सुदर्शनता**  
सुंदरता 157.1

**सुदर्शनधारी**  
कृष्ण 771.1  
विष्णु 786.1

**सुदर्शना**  
इंद्रः नगर अमरावती 773.7  
उजली रात 48.4  
पूर्णिमा. रात 48.6

**सुंदर स्त्री** 157.2

**सुदर्शनी**  
इंद्रः नगर अमरावती 773.7

**सुदशा**  
समृद्धि 626.1

**सुवांत**  
बुद्धः शिष्य सूची 793.12

**सुवामा**  
गंधर्व सूची 778.5  
सुवामा 771.98 ⇨

**सुवाय**  
दहेज 802.4

**सुदाक**  
देवदारु 13.10

**सुदिन**  
मंगल दिवस 796.4

**सुधी**  
शुक्ल पक्ष 45.3

**सुधीति**  
तीर्थ प्रकाश 287.2

**सुधीप**  
आलोकित 285.45  
तीर्थ प्रकाश 287.2

**सुधीपन**  
आलोकित 285.45

**सुधीप्ति**  
तीर्थ प्रकाश 287.2

**सुधीर्ष**  
अत्यधिक 944.7  
बृहत 979.15

**सुदुस्साह**  
दुस्साह्य 873.15

**सुदूर**  
दूरगत 1091.12  
दूरी पर 32.10  
सीमा के उस पार 1001.48  
सुदूरस्थ 32.8

**सुदूर अतीत**  
सुदूर भूत काल 36.12

**सुदूरता**  
सुदूरता 32.2 ⇨

**सुदूर भूत काल**  
सुदूर भूत काल 36.12 ⇨

**सुदूर भूत कालीन**  
सुदूर भूत कालीन 36.20 ⇨

**सुदूर भूत में**  
सुदूर भूत में 36.32 ⇨

**सुदूरस्थ**  
सुदूरस्थ 32.8 ⇨

**सुदृढ**  
अखंडनीय 326.19  
अभंजनशील 539.9  
दृढकाय 160.12  
सुदृढ 160.15 ⇨  
सुरक्षित 906.27

**सुदृढता**  
वीर्य कालीनता 37.4  
सुदृढता 160.7 ⇨

## सुदृढता (दे.)

### सुदृढता (दे.)

बलिष्ठता 160.1

### सुदृढ होना

सुदृढ होना 160.9 ⇨

### सुदृश्य

सुदृश्य 282.22 ⇨

स्पष्ट 822.20

### सुदृश्यता

सुदृश्यता 282.12 ⇨

स्पष्टता 822.1

### सुदृष्टि

तीक्ष्ण दृष्टि 282.2

दूर दृष्टि 282.5

### सुदृष्ट

कीर्त्तप्रिय पुरुष 469.6

### सुदृष्ट्य

सत्संग मंडली 749.23

### सुदृष्टिक

पर्यटन प्रदर्शक 1090.18

### सुदृष्ट्या

वैद्य. स्त्री सूची 783.21

### सुदृष्ट

सुंदरकाय 158.11

### सुदृष्ट

सुसंयोग 69.2

सौभाग्य 260.17

### सुदृष्टी

प्रभात में 47.21

शीघ्रतः 496.13

### सुदृष्टा

कठोर विष्टा 216.3

### सुदृष्ट खोज

नदोन्नत होना 211.10

### सुदृष्टन

हिरण्य कल्पिपुः पुत्र सूची 769.27

### सुदृष्ट्या

धनुषधारी 930.13

विदुर 771.87

विश्वकर्मा 773.44

विष्णु 768.1

### सुदृष्टुध

चेतना 263.4

### सुदृष्टुधयुक्तता

चेतनतः 263.14

### सुदृष्टुध लीटना

चेतना लाभ होना 263.9

### सुदृष्टुधहीन

चेतनाहीन 264.20

नदोन्नत 211.15

### सुदृष्टुधहीनता

चेतनाहीनता 264.2

### सुदृष्टुधयुक्त

चेतनायुक्त 263.12

### सुदृष्टता [सुदृष्टता]

उन्नतिशील 534.11

### सुदृष्टना

आरोग्य लाभ होना 171.17

उन्नत होना 534.8

सच्चरित्र होना 810.3

### सुदृष्टा [सुदृष्टी]

उन्नत 534.10

नवीकृत 64.13

परिष्कृत 537.9

### सुदृष्टार्थ

परिष्करण 537.2

परिष्करण 537.2

मरम्मत कर्म 538.2

सम्प्रीकरण 733.2

### सुदृष्टा शब्द

विकसित शब्द 423.7

### सुदृष्टर्म

कर्तव्य 895.4

सुधर्म 735.4 ⇨

### सुदृष्टर्मा

गृहस्थ आश्रमी 235.11

देवताः सप्ता 772.11

न्यायप्रिय 874.36

### सुदृष्टर्मी

धर्मशील 735.13

### सुदृष्टारु

चंद्रमा 8.2

### सुदृष्टारुध

मोती 97.2

### सुदृष्टा

अमृत 177.1

कली घृना 290.23

गंगा नदी 20.10

पुत्र वयू 724.24

पुत्री 718.10

पुष्प रस 84.6

मधु 280.9

रस 280.7

वधु 801.11

### सुदृष्टकंठ

कोयल 126.21

### सुदृष्टकर

चंद्रमा 8.2

### सुदृष्टकार

पुताई कर्ता 291.13

### सुदृष्टता

व्यवस्थापक 893.14

### सुदृष्टा

खरा चाँदी रोना 95.2

स्वर्ण 95.4

### सुदृष्टा ब्रह्म

कली घृना 290.23

### सुदृष्टा ब्रह्म

अति श्वेत 289.67

घृना पुता 291.20

### सुदृष्टधामा

चंद्रमा 8.2

### सुदृष्टनिधि

चंद्रमा 8.2

समुद्र 24.1

### सुदृष्टपति

शिव 767.1

### सुदृष्टा पाषाण

घृना पत्थर 99.4

### सुदृष्टा फेनी

फेनी 200.26

### सुदृष्टा भवन

पुता भवन 602.11

### सुदृष्टामा

ऋषि मुनि सूची 789.17

चंद्रमा 8.2

### सुदृष्टार

उन्नति 534.1

उप संपादन 445.12

जीर्णोद्धार 598.11

नवीकरण 64.6

परिष्कार 537.1

मरम्मत 538.1

सम्प्रीकरण 733.2

सुधार 537.5 ⇨

### सुदृष्टारक

उन्नतिकारी 534.12

सुधारक 537.13 ⇨

### सुदृष्टार कर्ता

सुधारक 537.13

### सुदृष्टार गृह

सुधार घर 537.6

### सुदृष्टार घर

सुधार घर 537.6 ⇨

### सुदृष्टारना

परिष्कार करना 537.7

मरम्मत करना 538.7

संशोधन करना 537.8

### सुदृष्टार फंभी

सुधारवादी 344.8

### सुदृष्टारवाच

प्रोटैस्टेंट मत 736.22

### सुदृष्टारवाची

प्रोटैस्टेंट मतावलंबी 736.23

सुधारवादी 344.8 ⇨

### सुदृष्टार विरोधी

आदि सिद्धांतवादी 343.20

### सुदृष्टार रस

अमृत 177.1

### सुदृष्टारलेप

घृना पुताई 291.5

### सुदृष्टार शर्करा

खरिया मिट्टी 100.13

### सुदृष्टारहता

गरुड़ 777.15

### सुदृष्टारि

स्मृति 356.1

स्मृति लाभ 356.10

### सुदृष्टारि

ज्ञानी 305.30

बोध प्राप्त 301.29

विद्वान् 319.8

सुस्वभावी 837.10

### सुदृष्टारि

अविचल 500.15

धैर्यशील 394.15

### सुदृष्टारि

अति श्वेत 289.67

चाँदी 95.3

घृना पुता 291.20

### सुदृष्टारि

प्रसन्न कर्ता 381.8

संतोषप्रद 360.20

### सुदृष्टारि

तृप्त कर्ता 361.18

### सुदृष्टारि

आनंदप्रद 382.18

### सुदृष्टारि

पार्वती 776.9

### सुदृष्टारि

गुप्त वार्तालाप 435.3

सुरागा 867.1

### सुदृष्टारि

इसलामी परंपरा 795.7

खतना 798.26

श्रवण 293.2

### सुदृष्टारि

खतना 798.26

विनम्रता 733.8

### सुदृष्टारि

अभिमुख होना 1023.5

सुनना 293.7 ⇨

### सुदृष्टारि

श्रोतव्य 400.15

सुनने वाला

श्रोता 399.6

### सुदृष्टारि

नम्य 545.33

### सुदृष्टारि

नम्यता 545.18

### सुदृष्टारि

सुंदर नयन 158.4

सुनयन 158.14 ⇨

हिरन 127.42

### सुदृष्टारि

सुनयना 158.15 ⇨

सुलोचना 784.29

### सुदृष्टारि

गुरुदमा सुनवाई 876.1

श्रवण 293.2

### सुदृष्टारि

गुरुदमा सुनना 876.22

### सुदृष्टारि

श्रोता 293.16

### सुदृष्टारि

एकांत स्थान 697.4

ध्यानहीनता 295.1

निर्जन 617.16

निर्जनता 617.6

निर्जन स्थान 617.7

### सुदृष्टारि

सुनसुनी 1039.12

**सुनहरी [सुनहरी]**  
 पचासवीं [पचासवीं] 948 101  
 स्वर्णिम 289.68  
**सुनहरी अबसर**  
 उपयुक्त अबसर 70.3  
**सुनहला [सुनहली]**  
 पचासवीं [पचासवीं] 948 101  
 स्वर्णिम 289 68  
**सुनहलापन**  
 स्वर्णिमा 289.20  
**सुना [सुनी]**  
 श्रुत 293 13  
**सुनाई**  
 मुरुदमा सुनवाई 876 1  
 श्रवण 293 2  
**सुनाई देना**  
 श्रुतिगम्य होना 293.11  
**सुनाई न देना**  
 न सुनना 293.8  
**सुनागर**  
 सभ्य 733 13  
**सुनागरता**  
 सभ्यीकरण 733 1  
**सुनाद**  
 सुरीला [सुरीली] 459.38  
**सुनादक**  
 शंख 461 78  
**सुनादी**  
 मधुर ध्वनिक 294.27  
**सुनाना**  
 अभिव्यक्ति करना 428.9  
 कथा वाचन करना 749 42  
 कहना 430.11  
 गाना 460 43  
 डॉटना 373 25  
 धमकाना 373 26  
 भर्त्सना करना 843.17  
 संज्ञापित करना 441.13  
 स्पष्ट कथन करना 430.12  
**सुनाम**  
 चक्र 1077.31  
 पहिया 1077.1  
**सुनामक**  
 पहिया 1077.1  
 मैनाक 17.14  
**सुनाम**  
 ख्याति 847.1  
**सुनामा**  
 देवकी 771.61  
**सुनार**  
 आभूषण व्यापारी 566.11  
 स्वर्ण कर्मी 566.2  
**सुनार की होल**  
 सूक्ष्म तौल 962.7  
**सुनार छप्पा**  
 सुनार छप्पा 414.14 ⇨  
**सुनार: कुकनी**  
 सुनार: कुकनी 85.24 ⇨

**सुनारी**  
 स्वर्ण कर्म 566.1  
**सुनारी औंस**  
 द्वीय औंस 962.38  
**सुनारी भार पद्धति**  
 रत्न भार पद्धति 962 62  
**सुनावनी**  
 मृत्यु सूचना 253.19  
**सुनियत**  
 मात्रा में नियत 946 17  
**सुनियम**  
 व्यवस्थितता 893.6  
 व्यवस्थितता 893 6  
**सुनियोजितता**  
 क्रमिकता 991 2  
**सुनिधारण**  
 मानकीकरण 957 2  
**सुनिधारित**  
 सुनिधारित 328.17 ⇨  
**सुनिर्मित**  
 सुडौल 155.4  
**सुनिर्मितता**  
 सुडौलता 155.2  
**सुनिवार्य**  
 सुनिवार्य 920.20 ⇨  
**सुनिरचय**  
 सकल्प 500 1  
**सुनिरचयन**  
 क्रय आरक्षण 660.11  
**सुनिरचल**  
 अधिचल 500 15  
 बोधिसत्त्व 793 15  
**सुनिरिधित**  
 अनुबंधित 339 32  
 आरक्षित 660 20  
 तथ्यान्वेषित 336 23  
 नियत 68 16  
 निर्धारित 328.14  
 निर्विवाद 324.24  
 मात्रा में नियत 946.17  
 सुनिर्धारित 328.17  
**सुनिरिधितता:**  
 अवरयमेव 68.21  
**सुनिरिधितता**  
 अवरयमेवभावना 68 7  
**सुनी अनसुनी करना**  
 अवज्ञा करना 348 4  
**सुनीच**  
 अधम 840.4  
 निम्न 983.5  
**सुनीत**  
 विनम्र 733.19  
 शिष्ट 733.18  
**सुनीति मार्ग**  
 सच्चरित्रता 810.2  
**सुनी सुनाई**  
 प्रवादित 440.8

**सुनी सुनाई बात**  
 अपुष्ट समाचार 440.5  
**सुनीया**  
 श्रोता 293 16  
**सुभ**  
 अनुभूतिहीन 264.19  
 अवसन्न 264.22  
 निस्संज्ञित 174.25  
 शून्य 948 13  
 स्पर्शानुभूतिहीन 269.13  
**सुभकरण**  
 निस्संज्ञीकरण 174.7  
**सुभ करना**  
 अवसन्न करना 264.16  
 निस्संज्ञ करना 174.23  
**सुभत**  
 इस्लामी परंपरा 795.7  
 खतना 798.26  
 धर्म 735.1  
 धर्मशीलता 735 2  
 परिपाटी 514.9  
 सच्चरित्रता 810.2  
 सुधर्म 735 4  
 सुत्री मत 736 10  
**सुभा**  
 शून्य चिह्न 948.14  
**सुभी**  
 सुत्री मतावलंबी 736 11  
**सुभी मत**  
 सुत्री मत 736.10 ⇨  
**सुभी मतावलंबी**  
 सुत्री मतावलंबी 736.11 ⇨  
**सुबंध**  
 चलनीय मार्ग 1063.2  
 सच्चरित्रता 810.2  
 सुधर्म 735 4  
**सुपक्व**  
 अभ्यस्त 303 19  
 जर्जर वृद्ध 232 12  
 सुपक्व 195.80 ⇨  
**सुपठनीय**  
 सुलिखित 412.46  
**सुपठ्य**  
 सुलिखित 412.46  
**सुपक**  
 सुशिक्षित 321.45  
**सुपथ**  
 चलनीय मार्ग 1063.2  
 सुधर्म 735.4  
**सुपथ्य**  
 आहार्य 197.22  
 पथ्याहार 182.7  
 सुपथ्याहार 182.9  
 सुपाध्य 178.8  
**सुपथ्याहार**  
 सुपथ्याहार 182.9 ⇨  
**सुपर ईंगो (अं)**  
 अंतरात्मा 351.4

**सुपर कंप्यूटर**  
 सुपर कंप्यूटर 951.7 ⇨  
**सुपरटेक (अं)**  
 अधिकर 647.6  
**सुपर नोका (अं)**  
 महानोवा 3 4  
**सुपर बाजार**  
 डिपार्टमेंटल स्टोर 662.4  
**सुपरमैन (अं)**  
 अतिमानव 772.39  
**सुपरवाइजर\* (अं)**  
 पर्यवेक्षक 284.22  
 श्रमिक अध्यक्ष 652.20  
**सुपरविजन (अं)**  
 पर्यवेक्षण 284.21  
**सुपरसोनिक स्पीड (अं)**  
 परास्वन गति 1042.8  
**सुपरामर्श**  
 सुपरामर्श 332.3 ⇨  
**सुपरिचय**  
 चिर परिचितता 704.9  
**सुपरिधित**  
 ख्यात 847.3  
 चिर परिधित 704.23  
 बहु परिधित 704.25  
**सुपरिधितता**  
 चिर परिधितता 704.9  
**सुपरिनेटईट (अं)**  
 कार्याध्यक्ष 652.17  
**सुपरिपाधित**  
 सुपरिपाधित 195.67 ⇨  
**सुपरिभाषित**  
 स्पष्ट 822.20  
**सुपरिष्कृत**  
 सभ्य 733.13  
**सुपरीक्षित**  
 तथ्यान्वेषित 336.23  
 परीक्षित 322.37  
 विश्वसनीय 340.13  
**सुपर्ण**  
 गरुड 777.15  
 गिद्ध 126.26  
 पौराणिक पर्वत सुषी 17.8  
**सुपर्णक**  
 अमलतास 13.3  
 गरुड 777 15  
**सुपर्णा**  
 विनता 787.20  
**सुपर्णी**  
 पलारा 13.13  
 विनता 787.20  
**सुपर्ण्य**  
 गरुड 777.15  
**सुपर्वा**  
 देवता 772.1  
 बांस 597.8  
**सुपाक**  
 सुपरिपाधित 195.67

## सुपाट्ट

**सुपाध्य**  
सुपाध्य 178.8 ⇨  
**सुपाठ्य**  
पठनीय 400.14  
**सुपात्र**  
सुपात्र 303.15 ⇨  
**सुपात्रता**  
सुपात्रता 303.2 ⇨  
**सुपार**  
गाध्य 984.9  
पारगम्य 1099 18  
**सुपारग**  
गीतम बुद्ध 793 1  
**सुपारगम्य**  
सुपारगम्य 1097.20 ⇨  
**सुपारी**  
पान मसाला सूची 213 20  
सुपारी 213.22 ⇨  
**सुपारी: टुकड़े**  
छालिया 938 18  
**सुपार्य**  
गाध्य 984 9  
पारगम्य 1097.18  
सुपारगम्य 1097.20  
**सुपार्यता**  
गाध्यता 984 5  
**सुपार्य**  
पीपल 13.14  
**सुपार्य नथ**  
तीर्थकर सूची 792.2  
**सुपासी**  
सूची 390.10  
सुविधाजनक 518.15  
**सुपीरिविटी कंप्लेक्स (अं)**  
श्रेष्ठ ग्रंथि 352.7  
**सुपुत्र**  
संपूत 718.5  
**सुपुर्द**  
सिपुर्द 638 18  
**सुपुष्ट**  
बलिष्ठ 160.10  
**सुपुष्पक**  
अमलतास 13.3  
शिरिष 13.21  
**सुपुष्पिका**  
सॉफ 281.36  
**सुपेवी**  
रुई गद्दा 593.45  
**सुपोषित**  
बलिष्ठ 160.10  
**सुप्त**  
अप्रयत्नशील 490.9  
अवसन्न 264.22  
घटनाहीन 75.16  
निद्रित 266.13  
निश्चल 1038.8  
मुकुलित 120.8  
स्पर्शानुभूतिहीन 269.13

**सुप्त अवस्था**  
निद्रा 266 1  
**सुप्त बेतना**  
अवघेतना 263 5  
**सुप्त जागरण**  
जागरण 265.2  
**सुप्तता**  
अवसन्नता 264.4  
निद्रा 266.1  
**सुप्त प्रबोधक**  
उज्जागरक 265.8  
**सुप्त प्रबोधन**  
उज्जागरण 265.3  
**सुप्पाटक**  
सुप्पाटक 267 5 ⇨  
**सुप्पाटन**  
सुप्पाटन 267 4 ⇨  
**सुप्पाटन करना**  
सुप्पाटन करना 267.8 ⇨  
**सुप्ति**  
असावधानी 498 1  
निद्रा 266 1  
समय अपालन 62.2  
**सुप्रकाशित**  
सुदृश्य 282 22  
**सुप्रकाशितता**  
सुदृश्यता 282.12  
**सुप्रज्ञ**  
बुद्धिमान 301 21  
**सुप्रतर**  
सुपारगम्य 1097.20  
**सुप्रतिज्ञ**  
दृढ़प्रतिज्ञ 339.45  
**सुप्रतिज्ञा**  
दृढ़ प्रतिज्ञा 339.18  
**सुप्रतिष्ठ**  
सुस्थित 1020.10  
**सुप्रतिष्ठा**  
ख्याति 847 1  
प्रतिष्ठा 849.2  
राज्याभिषेक 899.15  
स्थितता 1020.2  
स्नानाभिषेक 221.13  
**सुप्रतिष्ठित**  
प्रतिष्ठित 849.15  
सुस्थित 1020.10  
**सुप्रतीक**  
दिग्गज सूची 780.3  
यक्ष सूची 779.3  
**सुप्रबंध**  
व्यवस्थितता 893.6  
सुप्रबंध 655.7 ⇨  
**सुप्रबंधित**  
व्यवस्थित 893 13  
**सुप्रभ**  
आलोकित 285.45  
उज्ज्वल 218.37  
दीप्त 287.34

सुंदर 157 7  
**सुप्रभा**  
तेजस्विता 839.5  
दीप्ति 287.16  
नवशक्ति सूची 776.19  
**सुप्रभात**  
गुड मानिग 1060.15  
प्रभाती 451 28  
**सुप्रमेय**  
निदर्श 328.3  
**सुप्रयोग**  
व्यवस्थितता 893.6  
सदुपभोग 524 3  
**सुप्रशस्त**  
उत्तम 313.13  
प्रशस्त 841 29  
विस्तीर्ण 981 10  
**सुप्रसन्न**  
कुबेर 779 4  
प्रसन्न 381.7  
**सुप्रसाद**  
आशीर्वाद 714 4  
वरदान 714.1  
**सुप्रसिद्ध**  
ख्यात 847.3  
**सुप्रसिद्धि**  
ख्याति 847.1  
**सुप्राणी**  
वानर 127.89  
**सुप्राप्य**  
सुलभ 943.10  
**सुप्राप्यता**  
सुलभता 943 2  
**सुप्रीम कोर्ट (अं)**  
उच्चतम न्यायालय 874 10  
**सुफल**  
पुण्य फल 260.11  
फलप्रद 118.18  
**सुफल [सुफला]**  
फलप्रद 118.18  
**सुफलता**  
फलप्रदता 118.3  
**सुबक**  
सुबकी 386.11  
**सुबकना**  
सुबकना 386.25 ⇨  
**सुबकी**  
सुबकी 386.11 ⇨  
**सुबकी सेना**  
सुबकना 386.25  
**सुबल**  
बलिष्ठ 160.10  
शक्तिशाली 487.20  
सक्षम 487.25  
**सुबह**  
पूर्वाह्न 47.7  
प्रभात काल 47.4  
प्रभात में 47.21

**सुबह की लाली**  
प्रातः लालिमा 287.14  
**सुबह गाम**  
प्रभात में 47.21  
**सुबह दम**  
प्रभात में 47.21  
**सुबह शाम**  
पूरे दिन 1049.21  
विपरीतता उपमान सूची 310 13  
**सुबह सवेरे**  
प्रभात में 47.21  
**सुबह सुबह**  
प्रभात में 47.21  
**सुबहान**  
अल्लाह 764 12  
**सुबहान अल्लाह**  
सुबहान अल्लाह 741.34  
**सुबह बनारस**  
वाराणसी: प्रभात काल 47 5  
**सुबांधव**  
शिय 767.1  
**सुबाहु**  
बोधिसत्व सूची 793 16  
राक्षस सूची 784.4  
वानर सूची 781 7  
विशालबाहु 158 32  
शत्रुघ्न पुत्र सूची 770.60  
सुंदर बाहु 158 8  
सुबाहु 158.31 ⇨  
**सुबिद्ध**  
खमध्य 2 5  
**सुबुक**  
कोमलाग 159 9  
हलका [हलकी] 963 14  
**सुबुकदस्ती**  
हाथ की सफाई 473.28  
**सुबुकी**  
द्वुत गामिता 1044.4  
**सुबू**  
मद्यपान पात्र 209.38  
**सुबूत**  
प्रमाण 876.21  
**सुबूही**  
सुराही 679 15  
**सुबोध**  
बोध्य 518.17  
**सुबोध्यता**  
बोध्यता 518.5  
**सुबहमण्य**  
विष्णु 788.1  
स्कंद 773.50  
**सुबहान अल्लाह**  
सुबहान अल्लाह 741.34 ⇨  
**सुबहानी**  
ईश्वर कृत 764.36  
**सुबन्ध**  
धनिक आहार 197.9

सुभग	सोभाग्य 260 17	सुमानस	सुसंयोग 69.2
कोमलांग 159.9	सुमंगला	सरल 817.8	सुयोग्य
सोभाग्यशाली 260.33	अप्सरा सूची 782.3	सुमार्ग	सुपात्र 303 15
सुभग [सुभगा]	सुमंत	चलनीय मार्ग 1063.2	सुयोग्यता
सुंदर 157 7	सुमंत्र 770 70	सुधर्म 735 4	सुपात्रता 303.2
सुभगा	सुमंत्र	सुमार्गी	सुयोजन
प्रेमपात्रा 369.5	कूटनीतिज्ञ 819 16	सच्चरित्र 810 5	मानकीकरण 957.2
सुंदर स्त्री 157 2	सुपरामर्श 332 3	सुमाली	सुयोजित
सुहागन 803.13	सुमंत्र 770.70 ⇌	राक्षस सूची 784.4	सुविन्ध्यस्त ०27.23
सुभट	सुमंत्रणा	वानर सूची 781.7	सुरंग
महायोद्धा 934 20	सुपरामर्श 332.3	सुमाली [सुमालिनी]	गुप्त मार्ग 1065.2
योद्धा 934 15	सुमंद	माला धारी 228.55	बारूद: पत्नीता 927.21
रणवीर 396 9	सुमति	सुमित्र	बारूदी सुरंग 927.23
सुभद्र	कल्कि माता 769 16	घनिष्ठ मित्र 704.14	बिल 603.7
विष्णु 768 1	ज्ञानी 305 30	निस्वार्थ मित्र 705 10	भूमिगत रेलमार्ग 1066.19
सुभद्रा	नीतिज्ञ 517 13	सुमित्रा	सुरंग 1065.1 ⇌
अर्जुन. पत्नी सूची 771 38	प्रौढधी 301.25	दशरथ पत्नी सूची 770 34	सेध 864 16
आकाश गंगा 1 14	बुद्धिमान 301 21	यक्षिणी सूची 779 14	सुरंग खनन
नवकुमारी सूची 774 29	सुस्यभावी 837.10	राम विमाला सूची 770.4	सुरंग खनन 1018.6 ⇌
पौराणिक गाय सूची 127 11	सुपति नाथ	सुमित्रा 770.71 ⇌	सुरंग नाला
सुभद्रे श	तीर्थकर सूची 792 2	सुमित्रा नंदन	भूमिगत नाला नाली 23.7
अर्जुन 771 36	सुमति नाथ: उपासक (जैन)	लक्ष्मण 770 49	सुरंग बनाने वाला
सुभाग	तुष्टु 778 7	शत्रुघ्न 770 58	सौरगिक 1018.10
घनादघ 626 14	सुमधुर	सुमिरन	सुरंगभेदी
सोभाग्यशाली 260 33	मीठा [मीठी] 280 30	जप 749 2	सुरंगभेदी 927.24 ⇌
सुभागी [सुभागिनी]	श्रुतिप्रिय 294.25	सुमुख	सुरंग मार्ग
सोभाग्यशाली 260 33	सुमधुर भाषिणी	शिव 767 1	सुरंग 1065.1
सुभाज्य शैल	मिष्टभाषिणी 431 9	सुमुख [सुमुखी]	सुरंग लगाने वाला
स्तर शैल 99.13	सुमधुर भाषी	सुमुख [सुमुखी] 158 12 ⇌	विस्फोट खनिक 1018.9
सुभान	मिष्टभाषी 431 8	सुमूल	सुरंगा
सुब्बान अल्लाह 741 34	सुमध्यमा	आमूलित 117 21	सुरग 1065.1
सुब्बान अल्लाह 741 34	पतली कमर वाली 158 30	सुमेधा	सेध 864.16
सुभाष	सुमन	ऋषि मुनि सूची 789.17	सुरंगिया
मिष्टभाषी 431 8	पुष्प 115 6	बुद्धिमान 301 21	विस्फोट खनिक 1018.9
वार्तालाप कुशल 435 25	सुंदर 157 7	सुस्यभावी 837 10	सुरंगीय
सुभाषिणी	सुमनघाप	सुमेर	सुंदर रंग वाला 289.31
मिष्टभाषिणी 431 9	कामदेय 773 12	गगाजल. सुराही 679 16	सुरंजित
सुभाषित	सुमन पत्रिका	सुमेरु	सुरंजित 291.16 ⇌
सूक्ति 434 2	जायफल 281 16	उत्तर ध्रुव 10 11	सुर
सुभाषी	सुमनस	जपमाला. बडा दाना 749 8	ऋषि 789.2
मिष्टभाषी 431 8	प्रसन्नचित्त 837 16	सुमेरु 17.17 ⇌	तैत्तिरीय उपमान सूची 948.63
सुभाषी [सुभाषिणी]	सुमनस्क	शुक्ल पर्वत	देवता 772.1
वार्तालाप कुशल 435 25	प्रसन्नचित्त 837.16	पौराणिक पर्वत सूची 17 8	देव मूर्ति 746.1
सुभास	सदाशाय 817 10	सुर्यंत्रित	लय 458.22
आभायुक (रत्न) 98 11	सुमना	नियंत्रित 899.24	सगीत स्वर 459.1
सुभीला	कैकेयी 770 24	सुर्यत	सूर्य 8 1
उपयुक्त अवसर 70.3	घनेली 14 16	नियंत्रित 899.24	सुर असुर
विश्राम काल 494 2	देवता 772.1	सुर्यशा	विपरीतता: उपमान सूची 310.13
सुविधा 518.3	मालती 14.21	गर्ध्व. स्त्री सूची 778.8	शत्रुता. उपमान सूची 706.22
सुभुज	सुमरण	यक्षिणी सूची 779.14	सुर असुर 783.1 ⇌
सुबाहु 158.31	स्मरण 356 2	सुर्युक्त	सुर आलाप
सुभुजा	सुमरना	सुर्युक्त	आलाप 458.5
सुंदर बाहु 158.8	जपना 749 39	नियम संगत युद्ध 907.32	सुर आलापना
सुभूमि	सुमरनी	सुर्योग	आलाप लेना 458.53
उपयुक्त स्थान 70.5	108 मनके: माला 228 53	इष्ट योग 261.29	सुर उठाना
सुमंगल	जपमाला 749.7	उपयुक्त अवसर 70.3	गाना 460.43
कल्याण 710.2		मंगल काल 796.3	सुर करींद्र
			रावत 780.5

## सुर कानन

### सुर कानन

देवता: उद्यान 772.12

### सुर कामिनी

अप्सरा 782.2

### सुरकृत

अति प्राकृतिक 782.11

### सुरकेतु

इंद्र 773.5

### सुरक

गहरा लाल 289.61

### सुरक्षा

कुशल क्षेत्र 710.6

शरण 910.4

सुरक्षा 908.4 ⇌

### सुरक्षा नाका

सुरक्षा नाका 1064.11 ⇌

### सुरक्षा परिवद

सुरक्षा परिवद 443.17 ⇌

### सुरक्षापूर्वक

सुरक्षिततः 908.29

### सुरक्षा सुव्यवस्था

सुरासितता 893.3

### सुरक्षित

गुप्त 824.20

रक्षित 908.19

सुरक्षित 908.27 ⇌

### सुरक्षिततः

सुरक्षिततः 908.29 ⇌

### सुरक्षितता

सुरक्षा 908.4

### सुरक्षित पक्कव

सैनिक शिविर 933.11

### सुरक्षित रचना

सुरक्षित रचना 908.17 ⇌

### सुरक्षित शव

प्राचीन सुरक्षित शव 254.3

### सुरक्षित स्थान

शरण स्थल 910.5

### सुरक्षाव

चक्रवा 126.31

### सुर चौबन्ना

आलाप लेना 458.53

### सुर गण

देवता: समूह 772.7

### सुर गर्भ

देवता: संतान 772.4

### सुर गायक

गंधर्व 778.3

### सुर गिरि

सुमेरु 17.17

### सुर गुरु

बृहस्पति 789.22

### सुरक्षित

सुडील 155.4

### सुर जन

देवता: समूह 772.7

### सुरजा

अप्सरा सूची 782.3

### सुर टीप

आलाप 458.5

### सुरत

रति संयोग 237.10

### सुरत दूत

कुटना 807.10

### सुरत दूती

कुटनी 807.11

### सुरतरंगिनी

कामुकी 237.15

### सुरतरंगी

कामुक 237.14

### सुरता

अप्सरा सूची 782.3

ध्यानी 331.12

### सुर तान

आलाप 458.5

### सुरतालमय

संगीतमय 457.43

### सुरती

सुरती 213.4 ⇌

### सुरत्न

बहुमूल्य रत्न 96.3

### सुरत्राता

कृष्ण 771.1

### सुरत्व

देवत्व 772.2

### सुरवध

रथ आरूढ 1082.32

### सुर देवी

योग माया 771.82

विध्यवासिनी 774.85

### सुर द्रुम

कल्पवृक्ष 13.29

देवदारु 13.10

### सुर द्वेषी

असुर 783.6

### सुर नदी

गंगा नदी 20.10

### सुरनाथ

इंद्र 773.5

### सुरनारी

देवी 774.1

### सुरपति

इंद्र 773.5

सुरपति चाप

इंद्रधनुष 55.8

सुरपति तनय

जयंत 773.29

### सुर पथ

आकाश गंगा 1.14

### सुरपुत्री

इंद्र. नगर अमरावती 773.7

### सुर पुरोहित

बृहस्पति 789.22

### सुर प्रतिष्ठा

मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 598.9

### सुरमिया

जायफल 281.18

### सुरबाला

देवी 774.1

### सुरभानु

इंद्र 773.5

### सुरभि

कदंब 13.8

गाय 127.10

घंषा 14.15

तुलसी 13.9

पृथ्वी 9.1

प्रिय 369.7

बुद्धिमान 301.21

मदिरा 209.12

समिधा 753.29

सुगंध 273.4

सुगंधव्य 274.4

सुरभि 787.27 ⇌

### सुरभि कांता

जुही 14.18

### सुरभि गंधा

घमेली 14.16

### सुरभित

सुगंधपूर्ण 273.15

सुगंधित 274.31

### सुरभि वारु

चीड़ 13.7

### सुरभि बाण

कामदेव 773.12

### सुरभि मास

घैत्र 43.7

वसंत काल 52.1

### सुरभी

सुरभि 787.27

### सुरमई

हलका काला 289.39

### सुर मणि

धितामणि 96.18

### सुरमा

धातु पिंड सूची 976.12

नेत्राजन 225.22

सीसा 94.14

### सुरमाआलूद

नेत्रांजित 225.40

### सुरमादानी

सुरमादानी 225.36 ⇌

### सुर मिलाना

स्वर मिलाना 460.42

### सुरमेदानी

सुरमादानी 225.36

### सुरम्य

विचरणीय 1085.12

सुंदर 157.7

### सुरम्य रचना

ललित निबंध 449.16

### सुरम्य लेख

ललित निबंध 449.16

### सुर यान

देवता: विमान 772.14

### सुरवंध

इंद्र 773.5

शिव 767.1

### सुरविं

देवर्षि 789.6

### सुर लगाना

गाना 460.43

### सुर लोक

स्वर्ग 259.1

सुर लोक सुंदरी

दुर्गा 776.7

### सुर वाणी

देव वाणी 742.8

### सुरयाल

सेहरा 802.26

### सुर विन्यास

स्वर विन्यास 460.13

### सुर वैद्य

अश्विनी कुमार 773.3

### सुरशत्रुघ्न

शिव 767.1

### सुर शिल्पी

विश्वकर्मा 773.44

### सुरश्रेष्ठ

गणेश 773.22

धर्म 773.32

विष्णु 768.1

### सुरश्रेष्ठा

ब्रह्माणी 774.58

### सुर संगत

दमसाजी 460.25

### सुर संगतिया

दमसाज 460.26

### सुरस

सुरीला [सुरीली] 459.38

स्वादिष्ठ 275.20

### सुरसख्या

गंधर्व 778.3

### सुरसता

स्वादिष्ठता 275.10

### सुरसरि

गंगा नदी 20.10

### सुर सरिता

गोदावरी 20.14

### सुरसारी

सुरसरी 122.43 ⇌

### सुरसा

आकाश गंगा 1.14

तुलसी 13.9

दुर्गा 776.7

बैंगन 189.29

रामस स्त्री सूची 784.23

सुरसा 787.28 ⇌

सौंफ 281.36

### सुर सुंदरी

अप्सरा 782.2



सुरसुराना  
गुदगुदी करना 385.10  
सुरसुराहट  
खुजली 165.3  
सुरसुरी  
कीट सूची 122.12  
खुजली 165.3  
झुनझुनी 1039.12  
झुरझुरी 1039.13  
सुरसेना  
देवता. सेना 772.8  
सुर सेनापति  
स्कंद 773.50  
सुरस्वामी  
इंद्र 773.5  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1  
सुरही  
सुरागाय 127.49  
सुरहीन  
बेसुरा [बेसुरी] 459.39  
सुरहीनता  
बेसुरापन 459.35  
सुरांगना  
अप्सरा 782.2  
देवी 774.1  
सुरा  
मदिरा 209.12  
मद्य 209.1  
वाइन 209.15  
वारुणी 774.84  
सोम देव 773.49  
सुराकर  
मद्य आसवन शाला 82.3  
सुराग  
अनुधिष्टन 867.6  
सुराग  
अनुरक्ति भाव 752.11  
सुराग  
सुराग 867.1 ⇨  
सुरागारसी  
गुप्तघर 866.12  
पगधिष्टन तलाश कर्ता 336.26  
सुरागारसानी  
गुप्तघरी 866.10  
पगधिष्टन तलाश 336.10  
सुराग लगाना  
गुप्तघरी करना 866.20  
सुरागाय  
सुरागाय 127.49 ⇨  
सुरागायः सूक्ष्म  
घामर 85.28  
सुरागार  
मद्यशाला 209.36  
सुरागी  
गुप्तघर 866.12  
पगधिष्टन तलाश कर्ता 336.26

सुराचार्य  
बृहस्पति 789.22  
सुराज  
सुरासन 893.1  
सुराजकता  
सुरासन 893.1  
सुरासितता 893.3  
सुराजी  
स्वतंत्रता सेनानी 904.2  
सुराजीवी  
मद्य निर्माता 209.29  
सुराज्य  
सुरासन 893.1  
सुरात्याग  
मद्यत्याग 209.27  
सुराधिप  
इंद्र 773.5  
सुराध्यक्ष  
कृष्ण 771.1  
ब्रह्मा 768.1  
विष्णु 768.1  
सुरानीक  
देवता सेना 772.8  
सुरापान  
मद्यपान 209.21  
सुरा प्रेम  
मद्य रसिकता 209.25  
सुरा प्रेमी  
मद्य रसिक 209.43  
सुरायुध  
दिव्यास्त्र 928.1  
सुरागि  
असुर 783.6  
सुरागिहा  
विष्णु 768.1  
सुराहं  
स्वर्ण 95.4  
सुरावट  
आरोह अवरोह 458.1  
सुरीलापन 459.34  
स्वर सामंजस्य 460.15  
सुरावती  
अदिति 787.7  
सुरावास  
देव मंदिर 745.30  
सुमेरु 17.17  
सुरा विक्रेता  
मद्य विक्रेता 209.31  
सुरापूजा  
गोपी धंदन 100.14  
सुरा संभान  
मद्य आसवन 82.2  
सुरा सागर  
सप्त सागर सूची 24.22  
सुरा सुवरी  
साक्षी बाला 209.33  
सुरासुर  
सुर असुर 783.1

सुरा सेवी  
मद्यपायी 209.42  
सुराही  
मद्य कुंभ 209.37  
सुराही 679.15 ⇨  
सुराहीनुमा बोलल  
सुराहीनुमा बोलल 678.6 ⇨  
सुरीय  
दैविक 772.40  
सुरीला [सुरीली]  
श्रुतिप्रिय 294.25  
सुरीला [सुरीली] 459.36 ⇨  
सुरीलापन  
सुरीलापन 459.34 ⇨  
स्वर सामंजस्य 460.15  
सुरधि  
गंधर्व सूची 778.5  
बलि माता 769.39  
यक्ष सूची 779.3  
सुरधि 400.5 ⇨  
सुरधिपूर्ण  
सम्य 733.13  
सुरधि संपन्न 400.16  
सौंदर्य बोधपूर्ण 398.9  
सुरधिपूर्णता  
कलापूर्णता 402.1  
सुरधिमन्यक  
सुरधिमन्यक 400.21 ⇨  
सुरधिमन्यता  
सुरधिमन्यता 400.7 ⇨  
सुरधि संपन्न  
सुरधि संपन्न 400.16 ⇨  
सुरधिहीन  
कुंडल 155.5  
सुरधिहीन 401.17 ⇨  
सुरधिहीनता  
सुरधिहीनता 401.5 ⇨  
सुरध [सुरधा]  
सुंदर 157.7  
सुरधपता  
सुंदरता 157.1  
सुरधपा  
अप्सरा सूची 782.3  
नाग स्त्री सूची 778.24  
पौराणिक गाय सूची 127.11  
सुरधर  
मद्य 211.1  
मादकता 211.5  
सुरधर जाना  
मद्य प्रभाव होना 211.9  
सुरध  
इंद्र 773.5  
सुरधजित  
गरुड 777.15  
सुरधश्रुति  
गंजापन 137.16  
सुरध लेक  
स्वर्ग 259.1

सुरेख [सुरेखा]  
सुडोल 155.4  
सुरेख  
बृहस्पति 789.22  
बृहस्पति ग्रह 7.8  
सुरेख युग  
पीठ वर्ष 42.21  
सुरेखा  
तुलसी 13.6  
सुरेख  
असुरेणु 100.7  
सुरेतर  
असुर 783.6  
सुरेभ  
ऐरावत 780.5  
टीन 94.6  
सुरेरी  
सुरसरी 122.43  
सुरेश  
इंद्र 773.5  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1  
सुरेश्वर  
ब्रह्मा 766.1  
विष्णु 768.1  
शिव 767.1  
सुरेश्वरी  
राधा 771.83  
सुरेष्टक  
साल 13.26  
सुरेत्  
रखेली 806.7  
सुरेतिन  
रखेली 806.7  
सुरेया  
झुमका 228.13  
सुरेत्तम  
इंद्र 773.5  
सुर्य 8.1  
सुरोद  
राग गायन शैली सूची 460.39  
सरोद 461.84  
सुरोपम  
देवता तुल्य 772.41  
सुर्य  
लाल 289.60  
सुर्यक  
ख्यात 847.3  
सुर्यी  
मद्य 211.1  
समाचार शीर्षक 447.18  
सुर्य  
आतिशबाजी सूची 56.6  
राकेट 927.19  
राकेट 1075.1  
रुपया शैली 872.10  
सुरेबाज़  
राकेट चालक 1081.41

## सुलककड

**सुलककड**  
निद्राशील 266 15  
**सुलक्षण**  
सुंदर 157.7  
**सुलक्षण [सुलक्षणा]**  
सुलक्षणयुक्त 317.27  
सौभाग्यशाली 260 33  
**सुलक्षणता**  
सुंदरता 157 1  
सुलक्षणता 317.9 ⇨  
**सुलक्षणयुक्त**  
सुलक्षणयुक्त 317.27 ⇨  
**सुलक्षणा**  
सुंदर स्त्री 157 2  
**सुलक्षणी**  
सुंदर स्त्री 157 2  
**सुलक्ष्मा [सुलक्ष्मी]**  
सुलक्षणयुक्त 317.27  
**सुलगता [सुलगती]**  
अग्न्याधानित 107 13  
**सुलगाना**  
ईर्ष्या होना 709 3  
उत्तेजित होना 371 7  
क्रुद्ध होना 373 15  
दय्य होना 108.9  
**सुलगार्ह**  
अग्न्याधान 107 1  
**सुलगाना**  
आग जलाना 107 10  
**सुलगन**  
ध्यानमग्न 331 11  
**सुलच्छन [सुलच्छनी]**  
सुलक्षणयुक्त 317.27  
**सुलग्नन**  
सुलग्नन 574.5 ⇨  
**सुलग्नना**  
सुलग्नना 574.9 ⇨  
**सुलग्ना [सुलग्नी]**  
समाधानित 334.14  
सुलग्ना [सुलग्नी] 574.15 ⇨  
**सुलग्नाना**  
पहेली बुझना 334 11  
विवाद समाधान करना 877.20  
समाधान करना 334 10  
**सुलग्नाने वाला**  
समाधान कर्ता 334.15  
**सुलग्नानपन**  
सुलग्नानपन 574.6 ⇨  
**सुलग्नानव**  
विवाद समाधान 877 4  
समाधान 334.6  
सहमति 337.3  
**सुलटना**  
समाधान होना 334.9  
**सुलटा [सुलटी]**  
ऊर्ध्वमुख 1023.13  
**सुलटाना**  
समाधान करना 334.10

**सुलतान**  
दल नायक 852.6  
प्रथम स्थानीय 707.11  
राजा 882 6  
**सुलतान [सुलताना]**  
रजा [रानी] पत्नी (कन्या) स्त्री 882 10  
राजा रानी 882.5  
**सुलताना**  
राजा पत्नी 882.17  
स्वयं रानी 882.19  
स्वयं सम्राज्ञी 882 26  
**सुलतानी**  
उत्तम 313 13  
राजतत्रात्मक 881 39  
राजा वैभवशाली 226.17  
राजा पद 882 8  
राजा योग्य 882.35  
राजा विषयक 882.34  
राज्यीय 881.32  
लाल 289 60  
**सुलक्रा**  
घरस 212 6  
**सुलक्रा गौजा**  
मदय्य 212 1  
**सुलक्राबाज**  
घरसिया 212 16  
**सुलब्ध**  
सुलभ 943.10  
**सुलभ**  
शिय 767.1  
सुलभ 943.10 ⇨  
**सुलभता**  
सुलभता 943.7 ⇨  
**सुलभता**  
सामान्यता 311 1  
सुलभता 943.2 ⇨  
**सुलभ होना**  
सुलभ होना 943.6 ⇨  
**सुलभा**  
तुलसी 13.9  
बेला 14.20  
**सुलभ्य**  
सुलभ 943.10  
**सुलभ्यता**  
सुलभता 943.2  
**सुललाम**  
अति सुंदर 157.8  
सुंदर 157.7  
**सुललित**  
अति आनंदित 382.20  
अति सुंदर 157.8  
सुंदर 157.7  
**सुलह**  
संधि 906.5  
समझौता 877.5  
**सुलहनामा**  
संधि पत्र 906.6

**सुलाना**  
अवसन्न करना 264.16  
**सुलाभ**  
कल्याण 710 2  
शुभ लाभ 646.3  
हित 712.1  
**सुलिखित**  
सुलिखित 412.46 ⇨  
**सुलिपि**  
सुलेख 412.10  
**सुलूक**  
व्यवहार 828 1  
**सुलेख**  
सुलेख 412.10 ⇨  
**सुलेखः उपमान सूची**  
सुलेखः उपमान सूची 412 11 ⇨  
**सुलेखक**  
कातिब 413.8  
सुलेखक 412.47 ⇨  
**सुलेखन करना**  
सुलेखन करना 412.38 ⇨  
**सुलेमान श्रेणी**  
भारत उपमहाद्वीप. पर्वत सूची 17.1  
**सुलेमानी**  
रत्न सूची 96 5  
**सुलेमानी सुरमा**  
जादुई काजल 474.20  
**सुलोधन**  
घकोर 126 33  
शिय 767 1  
सुनयन 158 14  
हिरन 127.42  
**सुलोधना**  
अप्सरा सूची 782.3  
मेघनादः पत्नी 784 11  
यक्षिणी सूची 779.14  
राक्षस स्त्री सूची 784.23  
सुनयना 158 15  
सुलोधना 784.29 ⇨  
**सुलोम**  
रोमल 135 11  
**सुलोमा**  
रोमल 135.11  
**सुलोहक**  
पीतल 94 10  
**सुलोहित**  
गहरा लाल 289 61  
**सुरूस**  
तृतीयारा 949.19  
**सुवंश**  
उच्च कुल 728.2  
**सुवक्ता**  
निष्ठभाषी 431.8  
वार्तालाप कुशल 435.25  
**सुवचन**  
सुवचन 431.1 ⇨  
सूक्ति 434.2

**सुवचन [सुवचना]**  
सुमुख [सुमुखी] 158 12  
**सुवया**  
प्रगल्भा नायिका 456.10  
**सुवरण**  
स्वर्ण 95 4  
**सुवर्धल**  
काला नमक 279.6  
**सुवर्धला**  
सूरजमुखी 14 25  
**सुवर्धस**  
दीप्त 287 34  
**सुवर्धा**  
वैभवशाली 226.15  
**सुवर्धी**  
सज्जी 87 17  
**सुवर्ण**  
अच्छी नरत्न का 243.18  
उच्च वर्ण 731 6  
उच्च वर्णीय 731.32  
धन संपत्ति 624.10  
स्वर्ण 95.4  
स्वर्णिम 289 68  
**सुवर्णक**  
पीतल 94 10  
स्वर्ण 95 4  
**सुवर्ण कमल**  
रक्त कमल 14 6  
**सुवर्ण कार**  
स्वर्ण कर्मी 566.2  
**सुवर्णघ्न**  
रौंगा 94.13  
**सुवर्ण प्रतिमा**  
स्वर्ण मूर्ति 406.15  
**सुवर्ण माक्षिक**  
सोनामाखी 92.11  
**सुवर्ण सिद्ध**  
कीमियागर 87 7  
**सुवर्णाकर**  
स्वर्ण खान 92.16  
**सुवर्णाच्य**  
धतूरा 212.7  
**सुवर्णीय**  
सुंदर रंग वाला 289.31  
स्वर्णिम 289.68  
**सुवर्णित**  
घक्रित 1033 17  
व्यवस्थित 893.13  
**सुवर्तुल**  
समवर्तुलाकार 976.17  
**सुवर्लिण**  
कंद 111.10  
मूंगा 97.1  
**सुवर्वाच्य**  
सूक्ति 434.2  
**सुवर्वाच्य**  
पठनीय 400.14  
सुलिखित 412.46

सुचार्य  
सुनिवार्य 920 20  
सुवास  
आहार सुवास 281 1  
सुगंध 273 4  
सुयासक  
सुवासस्य 281 2  
सुवासन  
सुगंधन 274.2  
सुवासस्य  
सुवासस्य 281.2 ⇨  
सुवास [सुवासिनी]  
सुवेशित 589 27  
सुवासित  
मसालेदार 281 42  
सुगंधित 274 31  
सुवासित (आहार) 281 41  
सुवासित (आहार)  
सुवासित (आहार) 281 41 ⇨  
सुवासिनी  
प्राप्तयीवन विवाहित स्त्री 236 8  
सुहागन 803 13  
सुविकसित  
पूर्ण विकसित 534 15  
विकसित 534 14  
सुविक्रम  
वीर 396 6  
सुविख्यात  
ख्यात 847 3  
सुविचार  
विमर्श 330 11  
सुविचारण  
विमर्श 330 11  
विमर्शन 330 12  
सुविचारित  
विमर्शित 330 28  
सुविचारिततः  
विचारितत 330 29  
सुविज्ञ  
प्रवीण 303 22  
महाज्ञानी 305 31  
सुविज्ञता  
सुविज्ञता 305.19 ⇨  
सुवित  
सुधर्म 735 4  
सुवित्तल  
विष्णु मूर्ति सूची 746.7  
सुवित्त  
अति धनाढ्य 626 15  
उच्यवित्त 625.7  
सुवित्तता  
उच्यवित्तता 625 3  
सुवित्तित  
ख्यात 847.3  
धिर परिचित 704 23  
सर्व संज्ञात 441.21  
सुवित्तितता  
धिर परिचितता 704.9

सुविध संग्रह  
सुविध संग्रह 669 6 ⇨  
सुविधा  
उपयुक्त अवसर 70 3  
विश्राम काल 494 2  
सुविधा 518 3 ⇨  
सुविधाजनक  
सुविधाजनक 518 15 ⇨  
सुविधान  
व्यवस्थितता 893 6  
सुप्रबंध 655 7  
सुविधापूर्ण  
सुविधाजनक 518 15  
सुविधापूर्वक  
सुविधापूर्वक 518.25 ⇨  
सुविधा प्राप्त  
विशेषाधिकारी 897 17  
सुविधा भोगी  
विशेषाधिकारी 897 17  
सुविधायदिता  
अवसरवादिता 827 3  
सुविधा से  
सुविधापूर्वक 518 25  
सुविधाहीन  
असुविधापूर्ण 519 19  
सुविधित  
व्यवस्थित 893 13  
सुविन्यस्त 527 23  
सुविनीत  
विनम्र 733 19  
सुविन्यस्त  
सुविन्यस्त 527.23 ⇨  
सुविभीषण  
अति भयानक 395 26  
विकराल 154 23  
सुविशाल  
अत्यधिक 944 7  
विस्तीर्ण 981 10  
सुविहित  
निदेशित 347 16  
व्यवस्थित 893 13  
व्यवस्थित 893 13  
सुविन्यस्त 527 23  
सुवीर  
महायोद्धा 934 20  
महावीर 396.8  
विष्णु 768 1  
सुवीरक  
सीसा 94 14  
सुवीर्य  
महावीर 396.8  
सुपृढ  
जर्जर वृद्ध 232 12  
सुपेग  
प्रबल 487.24  
सुपेशप्रियता  
सुपेशिता 589.4

सुपेशित  
सुपेशित 589 27 ⇨  
सुपेशिता  
सुपेशिता 589.4 ⇨  
सुपेशिता (दे.)  
केशनप्रियता 222 13  
सुपेशिनी  
शृंगार प्रेमी (स्त्री) 222 6  
सुपेशी [सुपेशिनी]  
सुपेशित 589 27  
सुप्यक्त  
परिभाषित 317 17  
स्पष्ट 822 20  
सुप्यवस्था  
व्यवस्थितता 893 6  
व्यवस्थितता 893 6  
सुप्रबंध 655 7  
सुशासितता 893 3  
सुप्यवस्था स्थापना  
व्यवस्थापना 893 7  
सुप्यवस्थित  
क्रमिक 991 21  
नियंत्रित 899 24  
विन्यस्त 527 22  
व्यवस्थित 893 13  
सुप्यवस्थितता  
व्यवस्थितता 893 6  
सुप्याहृत  
उक्ति 434 1  
व्याहृति 741 17  
सुप्यत  
ताने बाने की तरह बुना 576 29  
सुप्युतता  
तानः बाना बुनावट 576 12  
सुप्यत  
अधिचल 500 15  
दृढ़प्रतिज्ञ 339.45  
विष्णु 768 1  
सुप्यत नाथ  
तीर्थकर सूची 792 2  
सुप्यता  
पतिव्रता 805.6  
सुप्यसी  
प्रशंसक 841 31  
सुप्यब्द  
मधुर ध्वनिक 294.27  
सुप्यब्दता  
काव्य गुण सूची 453.4  
सुप्यारी  
सुंदरकाय 158.11  
सुप्यारंत  
क्रोधहीन 372 13  
निश्चल 1038.8  
प्रशमित 372.10  
शांत 372.9  
स्थिरचित्त 355.6  
सुप्यारक  
घोलाई 189.20

सुशाक।  
परवल 189.25  
सुशासन  
सुप्रबंध 655 7  
सुशासन 893.1 ⇨  
सुशासित  
सुशासित 893.11 ⇨  
सुशासितता  
सुशासितता 893.3 ⇨  
सुशासित  
अभ्यस्त 303.19  
सुशासित 321.45 ⇨  
सुशीत  
अति शीतल 105 20  
हिमित 105.23  
सुशीतल  
अति शीतल 105.20  
ठंडाठार 197 42  
सुशीम  
अति शीतल 105.20  
सुशील  
मिलनसार 696.24  
सच्चरित्र 810 5  
सभ्य 733 13  
सरल 817.8  
सुशील [सुशीला]  
विनम्र 733.19  
सभ्य 733 13  
सुस्वभावी 837 10  
सुशीलता  
मिलनसारिता 696 8  
विनम्रता 733.8  
सच्चरित्रता 810.2  
सभ्यीकरण 733 1  
सरलता 817.2  
सुस्वभाव 837.1  
सुशीला  
सच्चरित्रा 810 6  
सुशीमन  
सुंदर 157 7  
सुशीमित  
आसीन 1028.10  
उपस्थित 1021.9  
शोभायुक्त 226.11  
सुश्या  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
कोमलहृदय 834.15  
सुश्या  
मधुर ध्वनिक 294.27  
सुशी  
अति सुंदर 157.8  
अविवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.5  
सुंदर 157.7  
स्त्री उपाधि सूची 856.4  
सुशीक  
अति धनाढ्य 626.15  
अति सुंदर 157.8

<b>सुश्रुत</b>			
<b>सुश्रुत</b>		<b>सुसंग</b>	<b>सुसरी</b>
ख्यात 847.3		सुसंगति 696.7	सास 724.7
वेदज्ञ 761.29		<b>सुसंगत</b>	<b>सुसहाय</b>
<b>सुश्रुता</b>		अवसरानुकूल 70.14	मित्रयुक्त 705.28
परिचर्या 651.6		विनियोज्य 438.7	<b>सुसाध्य</b>
संवर्धन 979.7		संगत 438.6	सहज 518.14
सत्कार 184.1		सामंजस्यपूर्ण 702.6	<b>सुसाध्य कार्य</b>
<b>सुश्लिष्ट</b>		<b>सुसंगतता</b>	सहज कार्य 518.2
बोध्य 518.17		संगतता 438.1	<b>सुसाध्यतः</b>
<b>सुरलोक</b>		<b>सुसंगति</b>	सहजतः 518.24
धर्मशील 735.13		सामंजस्य 702.1	<b>सुसाध्यता</b>
<b>सुवण</b>		सुसंगति 696.7 ⇌	सहजता 518.1
सुवेषण 781.18		<b>सुसंखालन</b>	<b>सुसिक्त</b>
<b>सुवप</b>		सुसंखालन 655.2 ⇌	संसिक्त 1008.29
अनेतर 945.6		<b>सुसंघालित</b>	<b>सुसिद्ध</b>
सदृश्य 309.20		सुसंघालित 655.17 ⇌	अभ्यस्त 303.19
समसंख्यक 949.29		<b>सुसंघालिततः</b>	सुपक्व 195.80
<b>सुवमना</b>		सुसंघालिततः 655.24 ⇌	<b>सुसिद्धि</b>
सुवुन्ना नाडी 757.5		<b>सुसंभावना</b>	साधु सिद्धि 790.29
<b>सुवभा</b>		अवश्यभावना 68.7	<b>सुसुप्ति</b>
दीप्ति 287.16		<b>सुसंभूत</b>	निद्रा 266.1
वैभय 226.5		बलिष्ठ 160.10	<b>सुसूक्ष्म</b>
शोभा 226.1		<b>सुसंयोग</b>	परमाणु 78.10
सुंदरता 157.1		सुसंयोग 69.2 ⇌	<b>सुसौभग</b>
<b>सुषि</b>		<b>सुसंवाद</b>	दापत्य संग 803.1
छिद्र 271.6		सुसमाचार 440.2	<b>सुस्त</b>
<b>सुषिर</b>		<b>सुसंस्कृत</b>	आलसी 490.14
छिद्रयुक्त 271.23		परिष्कृत 537.9	आशाहीन 376.5
<b>सुषिर वाद्य</b>		शिक्षित 321.41	उदास 380.14
सुषिर वाद्य 461.20		सभ्य 733.13	खिन्न 380.10
<b>सुषीम</b>		<b>सुसकी</b>	फिसड्डी 1095.23
ठिठुरम 105.4		सिसकी 386.10	विलंबकारी 495.12
<b>सुषुपन</b>		<b>सुसज्जित</b>	शिथिल 1045.13
निद्रागम 266.2		कलापूर्ण 402.3	शिथिलकाय 159.15
<b>सुषुप्ता</b>		शस्त्रधारी 930.6	स्फूर्तिहीन 492.14
निद्रित 266.13		शस्त्रीकृत 907.45	<b>सुस्त होना</b>
<b>सुषुप्ति</b>		शोभायुक्त 226.11	स्फूर्ति न होना 492.9
गहन निद्रा 266.3		सन्नद्ध 491.16	<b>सुस्ताना</b>
<b>सुषुप्ता</b>		सुवेशित 589.27	विश्राम करना 494.19
निद्रा इच्छा 266.6		<b>सुसत्य</b>	<b>सुस्ती</b>
<b>सुषुष्णा</b>		अति बलिष्ठ 160.11	आलस्य 490.5
सुषुष्णा नाडी 757.5		<b>सुसभेय</b>	फिसड्डीपन 1095.6
<b>सुषुष्णा</b>		सभा योग्य 694.28	स्फूर्तिहीनता 492.3
सुषुष्णा नाडी 757.5		<b>सुसभ्य</b>	<b>सुस्ती से</b>
<b>सुषुष्णा नाडी</b>		सभ्य 733.13	आलस्यपूर्वक 490.16
सुषुष्णा नाडी 757.5 ⇌		<b>सुसम</b>	<b>सुस्तुति</b>
<b>सुषेण</b>		समाकार 978.4	प्रशंसा 841.1
कृष्ण 771.1		<b>सुसमय</b>	<b>सुस्थ</b>
गंधर्व सूधी 778.5		उन्नति काल 534.2	विश्रात 494.21
बंत 923.8		उपयुक्त अवसर 70.3	<b>सुस्थित</b>
वानर सूधी 781.7		उपयुक्त अवसर पर 70.18	परिपूर्ण 313.14
विष्णु 708.1		समयानुसारता 61.7	<b>सुस्थित 1020.10 ⇌</b>
शस्त्रधारी 930.6		सौभाग्य 260.17	<b>सुस्थितता</b>
सुरेण 781.18 ⇌		<b>सुसमाचार</b>	सुदृढ़ता 160.7
<b>सुष्ट</b>		सुसमाचार 440.2 ⇌	<b>सुस्थिर</b>
सुडील 155.4		<b>सुसुराल</b>	अविचल 500.15
<b>सुसुता</b>		ससुराल 601.9	दुश्चिदाहीन 500.13
सुडीलता 155.2			निरुद्दिग्न 378.9
			<b>निश्चल</b> 1038.8
			प्रशमित 372.10
			<b>सुस्पर्श</b>
			कोमलांग 159.9
			<b>सुस्पष्ट</b>
			स्पष्ट 822.20
			<b>सुस्मरण शक्ति</b>
			स्मृतिधरता 356.3
			<b>सुस्मित</b>
			प्रसन्नचित्त 837.16
			<b>सुस्मिता [सुस्मिता]</b>
			मुक्करता [मुक्कराली] 384.17
			<b>सुस्मृति</b>
			स्मृतिधरता 356.3
			<b>सुस्वन</b>
			शंख 461.78
			श्रुतिप्रिय 294.25
			सुरीला [सुरीली] 459.38
			<b>सुस्वभाव</b>
			सुस्वभाव 837.1 ⇌
			<b>सुस्वभावी</b>
			सुस्वभावी 837.10 ⇌
			<b>सुस्वर</b>
			श्रुतिप्रिय 294.25
			सुरीला [सुरीली] 459.38
			स्वर सामंजस्यपूर्ण 460.45
			<b>सुस्वरता</b>
			स्वर सामंजस्य 460.15
			<b>सुस्वागत</b>
			स्वागत 1059.1
			<b>सुस्वादपूर्णाता</b>
			स्वादिष्ठता 275.10
			<b>सुस्वादिता</b>
			स्वादिष्ठता 275.10
			<b>सुस्वादु</b>
			स्वादिष्ठ 275.20
			<b>सुस्वादुता</b>
			स्वादिष्ठता 275.10
			<b>सुहंग</b>
			मंदा [मंदी] 664.33
			<b>सुहंगा [सुहंगी]</b>
			मंदा [मंदी] 664.33
			<b>सुहबत</b>
			गोष्ठी 694.4
			<b>सुहस्त</b>
			अभ्यस्त 303.19
			सुबाहु 158.31
			<b>सुहाग</b>
			दापत्य संग 803.1
			प्रिय संयोग 389.3
			नद्यु याभिनी 800.33
			वर वस्त्र 802.24
			सुहाग 803.11 ⇌
			सुहाग गीत 796.29
			<b>सुहाग उजकना</b>
			विषया होना 804.24
			<b>सुहाग कक्ष</b>
			नद्यु कक्ष 802.31

सुहाग गीत  
सुहाग गीत 796.29 ⇨  
सुहाग घोड़ी  
सुहाग घोड़ी गीत 796.30  
सुहाग घोड़ी गीत  
सुहाग घोड़ी गीत 796.30 ⇨  
सुहाग धिहन  
सुहाग धिहन 803.14 ⇨  
सुहाग धिहन सूची  
सुहाग धिहन सूची 803.15 ⇨  
सुहाग जोका  
वधु वस्त्र 802.23  
सुहागन  
सुहागन 803.13 ⇨  
सुहाग पिटारा  
सुहाग पिटारा 802.6 ⇨  
सुहाग पुजा  
सुहाग पुजा 802.7 ⇨  
सुहाग पुकी  
सुहाग पुजा 802.7  
सुहाग बिंदी  
सिद्धर बिंदी 225.15  
सुहाग मंदिर  
मधुकक्ष 802.31  
सुहाग मास  
मधुमास 800.34  
सुहाग रात  
मधु यामिनी 800.33  
सुहाग सेज  
मधुशय्या 802.17  
सुहागा  
सुहागा 281.33 ⇨  
सुहागा (दे.)  
त्रिंशकार सूची 87.12  
सुहागिन  
सुहागन 803.13  
सुहागिन अवस्था  
सुहाग 803.11  
सुहागिनी  
सुहागन 803.13  
सुहागी [सुहागिन]  
सीभाग्यशाली 260.33  
सुहाता [सुहाती]  
अल्प उष्ण 104.21  
शोभायुक्त 226.11  
सह्य 872.18  
सुहाती बात  
प्रिय वचन 431.2  
सुहाना  
सहन हो पाना 872.8  
सुखद लगना 390.9  
सुहाना [सुहानी]  
घाटुकारितापूर्ण 841.34  
शोभायुक्त 226.11  
सुहानापन  
सुखदता 390.7  
सुहाना लगना  
सुखद लगना 390.9

सुहानी गरमी  
सुहानी गरमी 53.10 ⇨  
सुहानी बात  
प्रिय वचन 431.2  
सुहानी सदी  
सुहानी सदी 53.3 ⇨  
सुहावना [सुहावनी]  
शोभायुक्त 226.11  
सुहावनी धूप  
शरद धूप 287.9  
सुहास  
मुस्कराहट 384.5  
हास 384.1  
सुहासी [सुहासिनी]  
मुस्कराता [मुस्कराती] 384.17  
सुहृद  
कला उपभोक्ता 399.2  
कला प्रेमी 400.17  
दर्शक 399.4  
विष्णु 768.1  
सुहृद जन  
कला उपभोक्ता गण 399.3  
सुहृदजन  
विद्वत्समाज 319.4  
सुहृद द्रोही  
मित्रद्रोही 827.20  
सुहृदय  
कला प्रेमी 400.17  
गुणज्ञ 305.34  
सुख्यभावी 837.10  
स्नेही 368.24  
सुहृद लाभ  
मित्रता स्थापना 705.15  
सुहेला  
मगल गीत 796.15  
सुहेला [सुहेली]  
सुखद 390.11  
सुहोता  
आहुति दाता 753.7  
यज्ञ होता 753.16  
सुहोत्र  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
देत्य सूची 783.19  
वानर सूची 781.7  
सू  
सादृश्य. उक्ति सूची 309.28  
सूँघ  
आप्राणन 273.2  
सूँघ कर रह जाना  
कम खाना 182.12  
सूँघना  
टोहना 336.22  
सूँघना 273.7 ⇨  
सूँघा  
गुप्तघर 866.12  
टोही 336.27  
सूँघा [सूँघी]  
आघ्राणित 273.11

सूँड  
अकुर 113.1  
सूँड 142.7 ⇨  
सूँडदार  
सूँडदार 142.8 ⇨  
सूँडिया  
सूँडदार 142.8  
सूँडी  
कीट सूची 122.12  
बाल नोक 113.9  
सूँस  
सूँस 124.12 ⇨  
-सू  
जनयित्री 243.11  
सू  
दिशा मे 29.35  
सूअर  
सूअर 127.81 ⇨  
सूअरखोर  
शूकर भक्षी 205.9  
सूअरनी  
मादा सूअर 127.82  
सूअर बाका  
सूअर बाका, 603.25 ⇨  
सूअर: बोली  
घर्घर 298.19  
सूअर: मांस  
शूकर मांस 206.23  
सूअर रोम  
शूकर रोम 135.4  
सूअर: शिशु  
सूअर शिशु 230.20 ⇨  
सूअरी  
मादा सूअर 127.82  
सूई  
सूई 562.23  
सूई  
अकुर 113.1  
ईजवचन 176.27  
ग्रामोफोन सूई 300.15  
घड़ी सूई 50.27  
तराजू कौटा 962.20  
सूई 562.23 ⇨  
सूई घड़ी  
सूई घड़ी 50.20 ⇨  
सूई भागा धैली  
दर्जी: धैली 873.15  
सूई नाका  
सूई नाका 562.24 ⇨  
सूई नोक  
सूई नोक 562.25 ⇨  
सूए  
दिशा में 29.35  
सूक  
शूक ग्रह 7.9  
सूकरी  
वाराही 774.83

सूक्त  
पूजा गीत सूची 749.26  
विधि निर्देश 514.2  
वेद मंत्र 741.5  
सुवचन 431.1  
सूक्त 741.14 ⇨  
सूक्ति 434.2  
सूक्तवर्षा  
मंत्रविधि 789.9  
सूक्तद्रष्टा  
मंत्रविधि 789.9  
सूक्तवाक  
मंत्र पाठ 749.14  
सूक्त वाक्य  
सूक्ति 434.2  
सूक्त विषयक  
सूक्त विषयक 741.22 ⇨  
सूक्त सूची  
सूक्त सूची 741.15 ⇨  
सूक्ता  
मैना 126.67  
सूक्ति  
सूक्ति 434.2 ⇨  
सूक्तोक्ति  
मंत्र पाठ 749.14  
सूक्ष्म  
असमाधान्य 335.12  
आत्मा 763.1  
ईश्वर 764.1  
दुर्बोध्य 519.23  
नगण्य 853.10  
बारीक 965.13  
बिंदु 968.1  
इहम् 764.24  
महत्त्वहीन 853.8  
मानसिक 351.8  
विष्णु 768.1  
सारांश 449.12  
सूक्ष्म 980.21 ⇨  
सूक्ष्मारीय 939.16  
सूक्ष्म अंश  
सूक्ष्म अंश 939.6 ⇨  
सूक्ष्म अर्थ  
सूक्ष्म अर्थ 426.10 ⇨  
सूक्ष्मकाय  
लघुकाय 154.28  
सूक्ष्मकायता  
लघुकायता 154.9  
सूक्ष्म कीट  
सूक्ष्म कीट 122.11 ⇨  
सूक्ष्म कोण  
न्यून कोण 970.6  
सूक्ष्म छिद्र  
सूक्ष्म छिद्र 271.13 ⇨  
सूक्ष्म ज्ञान  
अध्यात्म 761.1  
सूक्ष्मतः  
सूक्ष्मतः 426.42 ⇨

## सूक्ष्म तत्त्व

सूक्ष्म तत्त्व  
 सूक्ष्म मात्रिक तत्त्व 1008.8  
 सूक्ष्मताम  
 सूक्ष्मताम 980.22 ⇨  
 सूक्ष्मता  
 बारीक़ी 985.9  
 सूक्ष्मता 980.2 ⇨  
 सूक्ष्म तौल  
 सूक्ष्म तौल 982.7 ⇨  
 सूक्ष्म दक्षिता  
 सूक्ष्म दृष्टि 282.4  
 सूक्ष्म दक्षिण  
 सुदबीन 283.5  
 सूक्ष्म दृष्टि  
 सूक्ष्म दृष्टि 282.4 ⇨  
 सूक्ष्मदेही  
 परमाणु 78.10  
 सूक्ष्म धूलि  
 त्रसरेणु 100.7  
 सूक्ष्म निरीक्षण  
 सूक्ष्म निरीक्षण 284.18 ⇨  
 सूक्ष्म पोषक  
 सूक्ष्म पोषक 179.19 ⇨  
 सूक्ष्म भूत  
 तत्त्व 78.6  
 सूक्ष्म मात्रिक तत्त्व  
 सूक्ष्म मात्रिक तत्त्व 1008.8 ⇨  
 सूक्ष्म शरीर  
 सूक्ष्म शरीर 139.2 ⇨  
 सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्मा  
 सूत्रात्मा 763.4  
 सूक्ष्म शरीर धारी आत्मा  
 हिरण्य गर्भ 764.32  
 सूक्ष्मांश  
 सूक्ष्म अंश 939.6  
 सूक्ष्मांशतः  
 सूक्ष्मांशतः 939.22 ⇨  
 सूक्ष्मांशीय  
 सूक्ष्मांशीय 939.16 ⇨  
 सूक्ष्मा  
 नवशक्ति सूची. 776.19  
 रेत 100.1  
 विष्णु शक्ति 768.2  
 सूक्ष्माकार  
 सूक्ष्म 980.21  
 सूक्ष्माकारता  
 सूक्ष्मता 980.2  
 सूक्ष्माणु  
 सूक्ष्म कीट 122.11  
 सूक्ष्माणु 122.2 ⇨  
 सूक्ष्मात्मा  
 शिव 767.1  
 सूक्ष्मीकरण  
 लघुकरण 980.4  
 सूक्ष्मना  
 क्षीणकाय होना 159.7  
 पल्लव गिरना 117.16  
 वाष्प बनना 91.8

सूक्ष्मने से भार कम होना 963.10  
 सूक्ष्मने से भार कम होना  
 सूक्ष्मने से भार कम होना 963.10 ⇨  
 सूक्ष्मने से भार: कमी  
 शुष्क भार हास 963.8  
 सूखा  
 थलीय धरातल 25.3  
 दुर्मिक्ष 627.4  
 वर्षाहीनता 54.2  
 सुखंडी 163.36  
 सूखा [सूखी]  
 अनयुष्का [अनयुष्की] 197.19  
 अनतला [अनतली] 195.74  
 अनुर्वर (सूषि) 552.17  
 अरसिक 838.15  
 अरोचक 401.10  
 अस्निग्ध 197.17  
 कुपोषित 179.24  
 जलहीन 89.11  
 तृषा कातर 180.21  
 मांसहीन 132.19  
 म्लान 120.11  
 रसहीन 84.18  
 रुखा स्वभावी 838.12  
 रुखा [रुखी] 197.24  
 वनस्पतिहीन 111.32  
 वर्षाहीन 54.20  
 वसाहीन 132.23  
 शुष्क 89.9  
 सारहीन 84.20  
 सूखा (दे. सुखंडी)  
 कुपोषण 179.4  
 सूखा करना  
 शुष्क करना 89.6  
 सूखा कुअँ  
 जलहीन कूप 19.5  
 सूखा खजूर  
 चुहारा 191.8  
 सूखा गोबर  
 सूखा गोबर 110.13 ⇨  
 सूखा जवाब  
 स्पष्ट उत्तर 334.4  
 सूखा उठल  
 सूखा उठल 114.4 ⇨  
 सूखा उठल: भूसा  
 उठल: भूसा 114.5  
 सूखा दाढ़  
 ऐंग्जीमा 165.5  
 सूखा नारियल: गिरी  
 नारियल: गिरी 112.6  
 सूखा नासिका मल  
 सूखा नासिका मल 215.18 ⇨  
 सूखा पकना  
 वर्षा न होना 54.18  
 सूखा पत्ता  
 सुरती 213.4  
 सूखापन  
 अरसिकता 838.7

जलहीनता 89.4  
 वनस्पतिहीनता 111.3  
 शुष्कता 89.1  
 सूखा बाढ़  
 विपरीतता उपमान सूची 310.13  
 सूखी  
 दुग्धहीन 554.29  
 सूखी खेती  
 वर्षासिंचित कृषि 548.17  
 सूखी गरमी  
 कमी गरमी 53.8  
 सूखी गिरी  
 नारियल. गिरी 112.6  
 सूखी घटनी  
 बुरनी 201.4  
 सूखी जमीन  
 थलीय धरातल 25.3  
 सूखी बात  
 स्पष्टोक्ति 430.4  
 सूखी भाजी  
 भूजी 201.19  
 सूखक  
 अर्थ द्योतक 427.23  
 गुप्तधर 866.12  
 वर्णन कर्ता 449.27  
 संज्ञापक 441.20  
 सूखक अंक  
 संख्या अंक 948.3  
 सूखन  
 कथन 430.1  
 संज्ञापन 441.7  
 सूखना  
 अभिव्यक्ति 428.1  
 ज्ञान 305.1  
 परिज्ञान 305.13  
 संसूचना 441.6  
 समाधार 440.1  
 सूचना 441.1 ⇨  
 हैडबिल 442.12  
 सूचना तकनीक  
 सूचना तकनीक 441.3 ⇨  
 सूचना दाता  
 संज्ञापक 441.20  
 सूचना देना  
 संज्ञापित करना 441.13  
 सूचना पट  
 प्रचार पट 442.13  
 होडिंग 442.14  
 सूचना पत्र  
 प्रचार पत्र 442.6  
 हैडबिल 442.12  
 सूचना प्रदान  
 संज्ञापन 441.7  
 सूचना महापथ  
 सूचना महापथ 441.4 ⇨  
 सूचनार्थ  
 सूचनार्थ 441.26 ⇨

सूचना विज्ञान  
 सूचना विज्ञान 441.2 ⇨  
 सूचना हेतु  
 सूचनार्थ 441.26  
 सूषि  
 सूई 562.23  
 सूषी 993.1  
 सूषिक  
 दर्जी 577.3  
 सिलाई कर्मी 577.2  
 सूषिका  
 विषय सूची 447.7  
 सूषी पुस्तक 442.11  
 सूषित  
 उद्घाटित (रहस्य) 822.25  
 ज्ञात 305.29  
 संज्ञात 441.18  
 संज्ञापित 441.19  
 सूषित करना  
 संज्ञापित करना 441.13  
 सूषिचरदन  
 नेवला 127.69  
 सूषि वैध  
 ऐकूपंकचर 172.17  
 सूषी  
 इडेक्स 993.8  
 गुप्तधर 866.12  
 छिद्रण उपकरण 559.48  
 विषय सूची 447.7  
 सूई 562.23  
 सूषी 993.1 ⇨  
 सूषी पुस्तक 442.11  
 सूषी कर्म  
 चींसठ कला सूषी 397.4  
 सूषी क्रम  
 सूषी क्रम 991.7 ⇨  
 सूषी पत्र  
 सूषी पत्र 993.6 ⇨  
 सूषी पुस्तक 442.11  
 सूषी पत्रिका  
 सूषी पत्र 993.6  
 सूषी पुस्तक  
 सूषी पुस्तक 442.11 ⇨  
 सूषी मुख  
 सूई नोक 562.25  
 सूषीधान  
 गरुड 777.15  
 सूष्य  
 कथनीय 430.17  
 सूष्यग्र  
 सूई नोक 562.25  
 सूष्याकार स्तंभ  
 सूष्याकार स्तंभ 607.10 ⇨  
 सूषन  
 गूमक 166.5  
 शोध 166.8  
 सूषा  
 धरका: तकला 562.11

सूजा 562.26 ⇨  
 सूजा [सूजी]  
 अग्रसन्न 381.10  
 क्रुद्ध 373.28  
 रुष्ट 374.17  
 सूजी  
 रया 192.8  
 सूई 562.23  
 सूझ  
 आतरिक ज्ञान 305.4  
 कल्पना 308.1  
 दृष्टि 282.1  
 पहेली संकेत 333.16  
 सहसा कल्पना 308.3  
 सुझाय 332.5  
 सुझाना  
 कल्पना मे आना 308.11  
 दृश्य होना 282.15  
 बोध होना 301.17  
 सुझपूर्ण  
 कल्पनापूर्ण 308.14  
 सुझायपूर्ण 332.16  
 सुझबूझ  
 कल्पना 308.1  
 सुझबूझ: अभाव  
 कल्पनाहीनता 308.7  
 सुझबूझदार  
 कल्पनापूर्ण 308.14  
 सूट  
 उपहार परिधान सूची 583.23  
 सूट (अं)  
 कोट पतलून 583.18  
 परिधान समुदाय 583.16  
 सूटकेस  
 सूटकेस 676.19 ⇨  
 सूटा  
 कश 213.15  
 सूटिंग (अं)  
 कोट पतलून कपड़ा 579.17  
 सूत  
 उत्पादित 546.12  
 काष्ठ कर्मी 597.24  
 धारण 841.13  
 जन्मा [जन्मी] 248.10  
 ततु 569.1  
 धागा 569.7  
 बंदीजन 841.15  
 विजित दास 651.15  
 व्यास 972.12  
 सारथी 1079.10  
 साहुल डोरी 559.53  
 सूती धागा 569.22  
 सूट 959.10  
 सूतक  
 अवरोध 1047.8  
 आहार अशौच 198.7  
 जनन अशौच 198.8

सूत कर्म  
 यान चालन 1079.2  
 सूतकहीनता  
 आहार शौच 198.6  
 सूत कातती बुकिया  
 चंद्रमा कलंक 5.8  
 सूत कातना  
 कातना 567.14  
 सूत: तराजू  
 सूत: तराजू 962.14 ⇨  
 सूतना  
 धिकनाना 269.11  
 सूतपुत्र  
 कर्ण 771.47  
 सूतरी  
 सन डोरी 570.4  
 सूता  
 प्रसूता 244.2  
 बटा रेशम 568.14  
 सूति  
 प्रसव 244.1  
 सूति कर्म  
 प्रसूति कर्म 244.4  
 सूति कर्मी  
 प्रसूति कर्मी 244.5  
 सूतिकी  
 दाई 244.6  
 प्रसूता 244.2  
 सूतिगृह  
 प्रसूति कक्ष 244.7  
 सूती  
 सूती 568.15 ⇨  
 सूती कपड़ा  
 कपास वस्त्र 579.11  
 सूती धागा  
 सूती धागा 569.22 ⇨  
 सूतकार  
 सिसकी 386.10  
 सूत्या  
 सोम पान 210.6  
 सूत्याशौच  
 जनन अशौच 198.8  
 सूत्र  
 गुर 517.4  
 ततु 569.1  
 तारतम्य 1049.3  
 धागा 569.7  
 नियंत्रण 899.10  
 पूजा गीत सूची 749.26  
 योजना 520.1  
 विधि (क्रान्त): 878.1  
 विधि पालन 514.3  
 व्यवस्था 893.5  
 व्यास 972.12  
 शासन तंत्र 890.2  
 समीकरण सूत्र 952.6  
 सिद्धांत 343.9  
 सुरागा 887.1

सूती धागा 569.22  
 सूत्र ग्रंथ 740.48  
 सूत्र वाक्य 424.18  
 सूत्रकंठ  
 खंजन 126.24  
 सूत्रक  
 जजीर कषय 921.4  
 सूत्र कर्म  
 कपड़ा बुनाई 576.4  
 सूत्रकार  
 कताई कर्मी 567.8  
 कपड़ा बुनकर 576.5  
 राजगीर 599.20  
 शिय 767.1  
 सूत्रकोण  
 उमरु 461.41  
 सूत्रकोश  
 अटी 575.3  
 सूत्र क्रीडा  
 कढ़ाई कर्म 577.12  
 सूत्रक्रीडा  
 चौसठ कला सूची 397.4  
 सूत्र ग्रंथ  
 सूत्र ग्रंथ 740.48 ⇨  
 सूत्रण  
 एकत्रण 667.1  
 क्रमबद्धन 991.16  
 व्यवस्थापना 893.7  
 सूत्रबद्धन 573.3  
 सूत्र तंतु  
 धागा 569.7  
 सूत्रधार  
 इंद्र 773.5  
 व.उपतली वाला 473.7  
 मघ निर्देशक 468.11  
 मघ सचालक 468.10  
 सूत्रधार 468.13 ⇨  
 सूत्रधार: पत्नी  
 सूत्रधार: पत्नी 468.14 ⇨  
 सूत्रपात  
 कार्य आरंभ 521.1  
 क्षेत्र मापन 599.17  
 संस्थापना 693.1  
 सूत्र पिटक  
 सुत पिटक 740.5  
 सूत्र पुष्प  
 कपास 568.4  
 सूत्रबद्ध  
 पारिवारिक 726.13  
 सूत्रबद्ध 573.17 ⇨  
 सूत्रबद्ध करना  
 सूत्रबद्ध करना 573.12 ⇨  
 सूत्रबद्धन  
 सूत्रबद्धन 573.3 ⇨  
 सूत्र यंत्र  
 कताई यंत्र 562.5  
 घरखा 562.6

सूत्र वाक्य  
 सूत्र वाक्य 424.18 ⇨  
 सूत्र संग्रह  
 सूत्र ग्रंथ 740.48  
 सूत्रांत  
 बौद्ध धर्मग्रंथ 740.1  
 सुत पिटक 740.5  
 सूत्रात्मा  
 सूत्रात्मा 763.4 ⇨  
 सूत्राली  
 माला 228.30  
 सूत्रित  
 क्रमिक 991.21  
 नत्थीकृत 417.15  
 व्यवस्थित 893.13  
 सारांशित 449.30  
 सूत्री  
 मंघ निर्देशक 468.11  
 सूत्रधार 468.13  
 सूत्रीय  
 सैद्धांतिक 343.16  
 सूद  
 मघ आसवन 82.2  
 व्याज 633.10  
 सूद 959.10 ⇨  
 सूद: 10  
 इय 959.9  
 सूद: 16  
 इय 959.9  
 सूद: 8  
 इय 959.9  
 सूदक  
 मारने वाला 251.26  
 सूदक्षीर  
 व्याजजीवी 633.33  
 सूदक्षीरी  
 व्याज जीविता 633.5  
 सूद दर सूद  
 चक्रवृद्धि व्याज 633.11  
 सूदन  
 मारने वाला 251.26  
 सूदन  
 वध 251.3  
 सूदना  
 वध करना 251.19  
 सूदी  
 व्याजयुक्त 633.37  
 सूधा [सूधी]  
 ऊर्ध्वमुख 1023.13  
 छलहीन 815.8  
 सून  
 निर्जम 617.16  
 फल 116.1  
 सूना  
 एकांत स्थान 697.4  
 निर्जन स्थान 617.7  
 मृत्यु दंड स्थल 871.9  
 सून्य स्थान 33.4

## सूना [सूनी]

### सूना [सूनी]

अनावासित 617.13  
अनुभूतिहीन 264 19  
असफल 513.4  
ताराहीन 3 17  
निर्जन 617.16  
पल्लवहीन 115 14  
रहित 1007 3  
रिक्त 1005 7

### सूनापन

अनावासितता 617 3  
एकांतता 697 3  
ध्वनिहीनता 295 1  
निर्जनता 617 6  
रिक्तता 1005.1  
शून्य स्थान 33 4

### सूनु

पुत्र 718 3  
पोता 722 14

### सूनु

पोती 722 15

### सूनुत

प्रिय सत्य 820 7

### सूनुता

उषा 774 14  
कल्याण कामना 710 4

### सूप

छाज 580 22  
पकी दाल 201 12  
माजी रसा 201 24  
सूप 201.22 ⇌

### सूप कर्म

रसोई कर्म 195 6

### सूपकार

रसोईदार 195.7

### सूपतीर्थ

घाट 25.20

### सूप विद्या

पाक कला 195 3

### सूप शास्त्र

पाक कला 195.3

### सूपक

फाहा 174.19  
ब्रण पट्टी 174 16

### सूक्रिया

सूफ्री मत 736.12

### सूक्रियाना [सूक्रियानी]

अनलंकृत 227.5

सूक्रियाना [सूक्रियानी] 289.35 ⇌

### सूक्रियाने रंग बाला

सूक्रियाना [सूक्रियानी] 289 35

### सूफ्री

पापहीन 813.9  
सूफ्री मतावलंबी 736 13  
सूफ्री संत 790 10

### सूफ्री पीर

सूफ्री पीर 744.19 ⇌

### सूफ्री मत

सूफ्री मत 736.12 ⇌

### सूफ्री मतावलंबी

सूफ्री मतावलंबी 736 13 ⇌

### सूफ्रीवाद

सूफ्री मत 736 12

### सूफ्री संत

सूफ्री संत 790.10 ⇌

### सूबा

प्रदेश 34 9

### सूबाई

प्रदेश स्तरीय 35 4

प्रदेशीय 34 16

### सूबाए सारहद

सीमांत प्रांत 27 24

### सूबेदार

प्रांत प्रशासक 882 31

### सूबेदार मेजर

सूबेदार मेजर 935.16 ⇌

### सूम

कृपण 639 26

### सूमका [सूमकी]

अति कृपण 639.27

### सूमो

सूमो 486 16 ⇌

### सुय

यज्ञ 753 1

### सूरः

सूरत 739 6

### सूर

अघा [अधी] 164 4

ऋयामत तुरही 63 5

तुरही 461 5

धर्माचार्य 790 7

वीर पुरुष 396 2

सूर्य 8.1

### सूर क्रमार

वसुदेव 771.86

### सूरज

सूर्य 8 1

### सूरज दिख्वाई

निकमण सस्कार 798 15

### सूरजमुखी

उपवन पुष्प सूची 14 2

सूरजमुखी 14.25 ⇌

### सूरजमुखी (दे.)

तिहलन सूची 196.14

### सूरत

अध्याय 447.2

आकार रूप 967.5

कला शैली 397.14

कार्य विधि 514.1

चित्र 404.1

परिस्थिति 69.5

मुख मंडल 140.11

वेश 589.1

सूरत 739.6 ⇌

### सूरत आशाना

अत्य परिचित 704 24

### सूरत आशानाई

अत्य परिचितता 704 10

### सूरतगण

मूर्तिकार 406 18

### सूरत मूरत

मुख मंडल 140.11

### सूरता

वीरता 396 1

### सूरते हाल

वर्तमान परिस्थिति 69 6

### सूरदास

अंघा [अधी] 164 8

सूरदासः प्रधान रस

वात्सल्य रस 455.17

### सूरन

जमीकद 189 21

### सूरमा

योद्धा 934 15

वीर पुरुष 396 2

### सूरमापन

वीरता 396.1

### सूर सागर

कृष्णकथा ग्रथ सूची 771 21

### सूरसुत

कर्ण 771 47

### सूरसुता

यमुना 20 18

### सूरसूत

अरुण 777 14

### सुरा

सूरत 739 6

### सुरास्य

छिद्र 271.6

### सुरास्यदार

छिद्रयुक्त 271.23

### सुरि

ऋत्तिक 753 15

पुजारी 744.7

बृहस्पति 789 22

विद्वान व्यक्ति 319.2

सूर्य 8.1

### सुरी

कुंती 771.49

गुरु 323.1

छोटा भाला 925.5

जगत सेठ 626.9

धनाढ्य व्यक्ति 628.5

पूर्णविद्य 318.5

मादा सुअर 127.82

### सूर्पनखा

सूर्पनखा 784.27

### सूर्मी

लोह स्तंभ 255.14

### सूर्य

अर्यमा 773.2

कर्मसाक्षी देवता सूची 772.18

तारा 3 2

नवग्रह सूची 261 14

पद्यदेव सूची 772.33

बारह आदित्य सूची 777.4

विष्णु 768 1

वैदिक त्रिमूर्ति सूची 765 6

सूर्य 773.48 ⇌

सूर्य 8.1 ⇌

### सूर्य (आकाश)

त्रिदेव सूची 772 31

### सूर्य (दे.)

सूर्य 773 48

### सूर्यकांत

स्फटिक 283.20

### सूर्यकांत मणि

आतशी शीशा 283 7

स्फटिक 283 20

### सूर्यकाल

दिन 47 1

### सूर्य किरण

सूर्य किरण 288.3 ⇌

### सूर्य-कुंती: पुत्र

कर्ण 771 47

### सूर्यक्रांति

सूर्यक्रांति 5 12 ⇌

### सूर्यक्रांति वृत्

सूर्यक्रांति वृत् 5 13 ⇌

### सूर्य: खराद पर बना शस्त्र

इंद्र वज्र 928 8

शिव त्रिशूल 767 11

सुदर्शन चक्र 928 3

### सूर्य ग्रह

घड़ा. पेदा 680 27

### सूर्यज

कर्ण 771 47

सुप्रीय 781.17

### सूर्यजा

यमुना 20 18

### सूर्य दिशा

पूर्व 29.11

### सूर्य नमस्कार

योग आसन सूची 756.19

### सूर्य नाडी

इका नाडी 757.3

### सूर्यनाभ

दानव सूची 783.13

### सूर्य नारायण

सूर्य 8.1

### सूर्य: पत्नी

संज्ञा 774.94

### सूर्य परिक्रमा

सूर्यक्रांति 5.12

### सूर्य पुत्री

सावित्री 774.97

### सूर्य प्रकाश

धूप 287.8

### सूर्य प्रकाश मंडल

सूर्य प्रकाश मंडल 287.5 ⇌



सूर्य प्रणाम  
डंड सूची 485 10  
सूर्य प्रणाली  
सौर मंडल 7 1  
सूर्यप्रभ  
बोधिसत्त्व सूची 793 16  
सूर्यप्रिया  
कुती 771 49  
सूर्यभानु  
यक्ष सूची 779.3  
सूर्य मणि  
आतशी शीशा 283 7  
सूर्य मार्ग  
राशिचक्र 4 4  
सूर्यक्रान्ति वृत्त 5 13  
सूर्य मास  
सौर मास 43 3  
सूर्यमुखी  
सूरजमुखी 14 25  
सूर्य रश्मि  
सविता 774 95  
सूर्य किरण 288 3  
सूर्य लालिमा  
सूर्य लालिमा 287 13 ⇨  
सूर्य वंश  
सूर्य वंश 731 23 ⇨  
सूर्य वल्लभा  
कमल 14.4  
सूर्य वाति  
हीलियम 86 11  
सूर्यवार  
रविवार 46 3  
सूर्य संक्रान्ति  
सूर्य संक्रान्ति 5.25 ⇨  
सूर्य साधो  
अरुण 777 14  
देव गंधर्व 778.9  
सूर्यसुत  
यमराज 256 1  
वरुण 773 43  
शनि ग्रह 7.8  
सूर्य सुक्त  
सुक्त सूची 741.15  
सूर्य स्थान  
राशि 4.7  
सूर्यात (प्र)  
ब्लैक होल 3.5  
सूर्याशु  
सूर्य किरण 288.3  
सूर्या  
आकाश गंगा 1.14  
नव वधु 801 12  
संज्ञा 774.94  
सूर्याक्ष  
विष्णु 768.1  
सूर्याणी  
छाया 774.36

सूर्यातप  
धूप 287 8  
सूर्याति  
हीलियम 86 11  
सूर्यापाय  
सूर्यास्त 5 11  
सूर्यावर्त  
आधासीसी 392 7  
सूर्यास्त  
सायंकाल 47 13  
सूर्यास्त 5.11 ⇨  
सूर्यास्त काल  
सायंकाल 47 13  
सूर्यास्त दिशा  
पश्चिम 29 12  
सूर्यास्त-सूर्योदयः काल  
रात 48.1  
सूर्यीय  
सूर्यीय 8 9 ⇨  
सूर्येदु संगम  
अमावस्या 44 21  
सूर्योदय  
प्रभात काल 47 4  
सूर्योदय 5 8 ⇨  
सूर्योदय काल  
प्रभात काल 47 4  
सूर्योदय कालीन  
प्रभात कालीन 47 19  
सूर्योदय गिरि  
उदयाघल 17 10  
सूर्योदय-सूर्यास्तः काल  
दिन 47.1  
सूल  
जपमाला कुंदना 749.9  
सूलता [सूलती]  
सुभनशील 270 18  
टीसता [टीसती] 392 29  
सूलना  
सुभना 270.11  
टीसना 392 19  
सूली  
कूस 407 11  
शिय 767.1  
सूली. मृत्यु दंड 871.8  
सूली यंत्र 871 16  
सूलीः खंबा  
सूली यंत्र 871.16  
सूलीः मृत्यु दंड  
सूली मृत्यु दंड 871.8 ⇨  
सूली यंत्र  
सूली यंत्र 871.16 ⇨  
सूलीनिर (अं)  
ब्रह्मियर 442 9  
सूस  
गोह 123.4  
सूस 124.12  
सूसमार  
सूस 124 12

सूस  
मूत्र 216 15  
सूहा  
राग रागिनी सूची 457.24  
सूखला  
शूखला 589 26  
सूजयी  
यजमान. पत्नी 743.7  
सूक्किणी  
ओष्ठ कोर 143 4  
सूक्विणी  
ओष्ठ कोर 143 4  
सूग  
कंठहार 228 26  
माला 228 30  
सूग्धिनी  
मादा गीदक 127 76  
सूजक  
रघेता 527 14  
सृष्टि रघेता 529 5  
सूजन  
कला कर्म 397 15  
जनन 243 1  
रचना कर्म 527 1  
साहित्य लेखन 448 1  
सूजन अकर्ता  
अरघेता 528 7  
सूजन करना  
रचित करना 527 9  
सूजन कर्ता  
रघेता 527 14  
सूजन कर्मी  
रघेता 527 14  
सूजनशील  
रचनाशील 527 15  
सूजनशीलता  
रचनाशीलता 527.3  
सूजनहार  
ब्रह्मा 766 1  
सृष्टि रघेता 529 5  
सूजनहीन  
रचनाहीन 528.5  
सूजनहीनता  
रचनाहीनता 528.2  
सूजनत्मक  
रचनात्मक 527.11  
सृजित  
रचित 527 12  
सृजित करना  
रचित करना 527.9  
सूजेता  
साहित्य लेखक 448.2  
सृज्य  
रघनीय 527.13  
सृत  
सरका [सरकी] 1084.50  
सृति  
सरकन 1084.22

सूत्तर  
गमनशील 1091.10  
सूत्तरी  
धारा 21 14  
समुद्री जलधारा 21.17  
सूत्वा  
शिय 767.1  
सूदाकु  
इंद्र वज्र 928.8  
सूप  
रंगने वाला 1084.48  
सूपन  
सरका [सरकी] 1084.50  
सूष्ट  
कार्यान्वित 505.27  
प्रसंस्कृत 527.20  
रचित 527.12  
सूष्ट जीव  
जीव 121.4  
सूष्ट मारुत  
अपान वायु 245.15  
सूष्टा  
ईश्वर 764.1  
कलाकार 397.16  
रघेता 527 14  
सृष्टि रघेता 529.5  
सृष्टि  
कलाकृति 397.20  
चेतन जगत 121 1  
जक चेतन जगत 78.1  
जीव 121.4  
जीव जगत 121.3  
ब्रह्मांड 1.1  
रचना कर्म 527.1  
सृष्टि रचना 529.1  
सृष्टिः अंत  
प्रलय 530.1  
सृष्टि आरंभ में जन्मे देवता  
आजान देवता 772.15  
सृष्टि करना  
सृष्टि बनाना 529.4  
सृष्टि कर्ता  
ब्रह्मा 766.1  
सृष्टि रघेता 529.5  
सृष्टि कर्म  
रचना कर्म 527 1  
सृष्टि काल  
सृष्टि काल 529.2 ⇨  
सृष्टि चक्र  
आवागमन चक्र 246.3  
सृष्टि धारक तत्त्व  
सृष्टि धारक तत्त्व 529.3 ⇨  
सृष्टि पालक पौषक  
दक्ष 787.2  
सृष्टि बनाना  
सृष्टि बनाना 529.4 ⇨  
सृष्टि रचना  
सृष्टि बनाना 529.4

## सृष्टि रचना काल

सृष्टि रचना 529.1 ⇨

सृष्टि काल

सृष्टि काल 529.2

सृष्टि रचेता

सृष्टि रचेता 529.5 ⇨

सृष्टि विचार

अध्यात्म 761.1

सृष्टि विज्ञान

ब्रह्मांड विज्ञान 1.3

सृष्टीय

ब्रह्मांडीय 1.15

सृष्ट्य

रचनीय 527.13

संके

उष्णता 104.1

तापन 104.4

सिंकाई 104.5

संकेना

तपाना 104.16

तपे पर तलना 195.54

तापना 104.17

संके पट्टी

संके पट्टी 104.7 ⇨

संगरा

घन कुप्यी 1062.15

लीवर 1062.3

संत

निरशुल्कता 665.3

संतना

संग्रह करना 669.18

संवरण करना 667.11

सिंकोइना 980.18

संबंधत

प्रयोजनहीनता 509.5

संतमंत का

निरशुल्क 665.8

संतमंत में

निरशुल्कता 665.9

संती

निरशुल्कता 665.3

संधी

छोटा भाला 925.5

संदुरिया

आम सूची 190.10

संश्रिय

इंद्रिययुक्त 268.12

चेतनायुक्त 263.12

संश्रिय जगत

चेतन जगत 121.1

संध

संध 864.16 ⇨

संध चौरी

संधमारी 864.15

संधना

संध मारना 864.46

संधमार

संधमार 864.17 ⇨

संध मारना

संध मारना 864.46 ⇨

संधमारी

संधमारी 864.15 ⇨

संध लगाना

संध मारना 864.46

संधा नमक

त्रिलवण सूची 279.3

संधा नमक

संधा नमक 279.9 ⇨

संधा नमक

संधा नमक 279.9

संधिया

संधमार 864.17

संधी

फूट 190.25

संधई

संधईयाँ 203.44

संध

संध 864.16

संधा

कूप उत्खनक 19.20

संधुआ

संधेद दाग 165.13

से

अब के उपरांत 39.17

कृततः 505.33

तुलना में 309.23

माल से 1098.26

वे 316.15

संकेड

संकेड 50.10

संके

आर्द्रण 88.17

सिचन फुहारा 1032.12

संकेका

अकुश 555.20

चाबुक 555.23

संकेत्र

डोल 679.33

संके

आर्द्रण 88.17

छिड़काव 668.7

फुहारा 1032.10

संकेक

मेघ 55.1

संके घट

डोल 679.33

संकेन

सिचन 548.13

संकेनक

सिचन फुहारा 1032.12

संकेज

विस्तर 593.58

मधुशाय्या 802.17

शाय्या 594.1

संकेवह

तेरह 948.44

सेजना

सहजन 13.24

सेठ

आमूषण व्यापारी 566.11

कुबेर 779.4

घनाढ्य व्यक्ति 626.5

व्यापारी वैश्य 731.26

साहूकार 633.4

सेठ 626.8 ⇨

सेठ महाजन

घनाढ्य जन 626.4

सेठ साहूकार

घनाढ्य जन 626.4

सेठानी

व्यापारी वैश्य स्त्री 731.27

सेठिया

साहूकार 633.4

सेठ 626.8

सेठी

व्यापारी वैश्य 731.26

सेठ 626.8

सेङ

पाल 1073.10

सेङखाना

पालघर 1073.40

सेनु

पुल 1065.6

बॉथ 22.7

रीड 670.16

सेनु कर्म

पुल निर्माण 598.10

सेनुबंध

पुल 1065.6

राम पुल 1065.13

सेनु बंधन

पुल निर्माण 598.10

सेनुबंध निर्माता

नल 781.11

नील 781.12

सेनुबंध नौका

सेनुबंध नौका 1072.33 ⇨

सेनु शील

वर्ष पर्वत 16.8

सेनुग्र

बीवर ऊद बिलाव 124.6

सेत्र

पाश 1013.8

सेन

दियंबर साधु 790.25

सेनजित

अप्सरा सूची 782.3

जेय 518.20

सेनप

सेनापति 935.1

सेनहा

दानव सूची 783.13

सेनांग

दस्ता 932.24

सेना अंग 932.7

सेना

इंद्र वज्र 928.8

छोटा भाला 925.5

भाला 925.4

शायी 774.89

सेना 932.1 ⇨

-सेना (जैसे: वसंतसेना)

वैश्या 807.5

सेना: अंग

सेना. अंग 932.7 ⇨

सेना कक्ष

सेना पार्श्व 933.5

सेना कर्म

सेनिकता 932.2

सेना गोप

सहायक सेना 932.5

सेनिक 934.1

सेनाग्र

सेनाग्र 933.1 ⇨

सेना: चार अंग

सेना: चार अंग 932.9 ⇨

सेना: चार अंग सूची

सेना: चार अंग सूची 932.10 ⇨

सेना: चारण

सेना. चारण 841.14 ⇨

सेना चौकी

सेना चौकी 933.9 ⇨

सेना छावनी

सेना छावनी 933.7 ⇨

सेना छावनी: उत्तरी सीमा

सेना छावनी: उत्तरी सीमा 933.8 ⇨

सेनाजीवी

सेनिक 934.1

सेना दुकड़ी

सेना विभाग 932.20

सेना दल

दस्ता 932.24

सेनाधिकारी

राजपत्रित सेनाधिकारी 935.4

सेनाधिनाथ

सेनापति 935.1

सेनाधिप

सेनापति 935.1

सेनाधिपति

सेनापति 935.1

सेनाधीश

सेनापति 935.1

सेनाध्यक्ष

सेनापति 935.1

सेनानी

सेनापति 935.1

सेना न्यायालय

सेना न्यायालय 874.8 ⇨

सेना पंक्ति

सेना पंक्ति 933.6 ⇨

सेनापति

सेनापति 935.1 ⇨

सेविंग्स फ्रंड अकाउंट (अँ)

स्कंद 773.50  
 सेनापति पति  
 कमांडर इन चीफ़ 935.11  
 सेना पदाधिकारी  
 राजपत्रित सेनाधिकारी 935.4  
 सेना पलायन  
 युद्ध पलायन 916.5  
 सेना पार्श्व  
 सेना पार्श्व 933.5 ⇨  
 सेना पृष्ठ  
 सेना पृष्ठ 933.3 ⇨  
 सेना पृष्ठ रक्षक  
 पृष्ठ रक्षक सेना 933.4  
 सेना भंग  
 युद्ध पलायन 916.5  
 सेना भंग करना  
 विसैन्यीकरण करना 906.11  
 सेना मुख  
 सेनाग्र 933.1  
 सेना: रसद विभाग  
 सेना रसद विभाग 656.12 ⇨  
 सेना रहित  
 असैन्य 932.36  
 सेनावास  
 सेना छावनी 933.7  
 सैनिक शिविर 933.11  
 सेना विभाग  
 सेना विभाग 932.20 ⇨  
 सेना वृत्ति  
 सैनिकता 932.2  
 सेना बेलन वितरक  
 बख्शी 935.18  
 सेना व्यूह  
 सेना व्यूह 907.8 ⇨  
 सेना शिविर  
 सेना छावनी 933.7  
 सेना संघलन  
 मार्च 1083.11  
 सेना सहित  
 ससैन्य 932.35  
 सेनी  
 सीडी 613.6  
 सेनी (अज्ञातवास: नाम)  
 सहदेव 771.96  
 सेफ्टी पिन  
 सेफ्टी पिन 417.9 ⇨  
 सेफ्टी पिन (अँ)  
 सेफ्टी पिन 417.9  
 सेब  
 खाद्य फल सूची 190.2  
 सेब 190.36 ⇨  
 सेबल  
 सेबल 582.21 ⇨  
 सेबल (अँ)  
 सेबल 582.21  
 सेन  
 दलहन सूची 188.7  
 साग सब्जी सूची 189.4

सेम 189.36 ⇨  
 सेमई  
 सिवइयाँ 192.17  
 सेयम  
 तीसरा [तीसरी] 948.88  
 सेर  
 भरा [भरी] 1004.12  
 सेर 962.54 ⇨  
 सेर: 1/16  
 छटौंक 962.36  
 सेर: 25  
 पीवा 962.46  
 सेर: 5  
 पंसेरी 962.45  
 सेराई  
 आर्द्रण 88.17  
 सेराना  
 आर्द्र करना 88.19  
 भराई करना 1004.8  
 समाप्त होना 942.12  
 सिंघन करना 548.38  
 सेराब  
 अति आनदित 382.20  
 आर्द्र 88.27  
 वनस्पतियुक्त 111.31  
 वर्षा कालीन 54.19  
 संसिक्त 1008.29  
 सिंघित 548.55  
 सिंघित खेत 551.15  
 सेरी  
 ऊब 401.3  
 सेरु  
 अनुबधकारा 339.33  
 सेरुआ  
 सिरहाना पाटी 594.19  
 सेर्य  
 ईध्यापूर्ण 709.4  
 सेल  
 हल. सेल 563.14  
 सेल (अँ)  
 पाल 1073.10  
 सस्ती बिक्री 661.7  
 सेलखड़ी  
 सिलखड़ी 99.12  
 सेलर (अँ)  
 खलासी 1080.22  
 सेला  
 उसना चावल 187.10  
 बर पगड़ी 802.25  
 सेली  
 रेशमी चादर 585.12  
 सेल्सा  
 भाला 925.4  
 सेल्सगल  
 सेल्सगल 661.17 ⇨  
 सेल्सगल (अँ)  
 सेल्सगल 661.17

सेल्स टैक्स (अँ)  
 बिक्री कर 647.13  
 सेल्समैन  
 सेल्समैन 661.16 ⇨  
 सेल्समैन (अँ)  
 सेल्समैन 661.16  
 सेल्स क्लम (अँ)  
 शोरूम 662.6  
 सेल्स लैजर (अँ)  
 बिक्री बही 632.17  
 सेवई  
 सीमी 200.13  
 सेयंसी  
 गुल दाऊदी 14.10  
 सेय  
 सेब 190.36  
 सेवइयाँ  
 सेवइयाँ 203.44 ⇨  
 सेयक  
 आज्ञा पालक 347.12  
 आवासीय सेवक 651.4  
 कंचुकी 467.14  
 धपू घारी 1080.20  
 पत्रांतः स्तुति आदि सूची 444.42  
 पुजारी 744.7  
 पूजक 751.3  
 भक्त 790.6  
 सेयक 651.25 ⇨  
 सेवक [सेविका]  
 कर्मचारी 652.27  
 नगण्य व्यक्ति 853.4  
 परोस कर्मी सूची 183.21  
 सेयकला  
 आ ग पालकता 347.7  
 यिनप्रता 733.8  
 सेवा 651.1  
 सेवा भाव 752.18  
 सेवा भाव 752.18  
 सेवा भाव 752.18 ⇨  
 सेवकाई  
 सेग 651.1  
 सेव. गत्व 752.18  
 सेवड़ा  
 जैन साधु 790.24  
 सेवड़े का जादू  
 सेवड़े का जादू 474.6 ⇨  
 सेवली  
 गुल दाऊदी 14.10  
 सेवन  
 पूजन 751.2  
 भोग 363.1  
 भोजन कर्म 181.4  
 सेवन करना  
 खाना पीना 181.31  
 सेवन कर्ता  
 उपभोक्ता 524.16  
 सेवर  
 शहर जाति 732.12

सेवरा  
 जैन साधु 790.24  
 सेवरी  
 शहरी 770.63  
 सेवा  
 परिचर्या 651.6  
 पूजा 751.1  
 भोग 363.1  
 सेवा 651.1 ⇨  
 सेवा भाव 752.18  
 सेवा आवेदन  
 पद आवेदन 653.3  
 सेवा आवेदन पत्र  
 पद आवेदन पत्र 653.5  
 सेवा उपासना  
 पूजा 751.1  
 सेवा ध्युति  
 सेवा ध्युति 653.15 ⇨  
 सेवा टहल  
 परिचर्या 651.6  
 सत्कार 184.1  
 सेवादार  
 परिचारक 651.28  
 सिख धर्माधिकारी 744.46  
 सेवादारनी  
 परिचारिका 651.29  
 सेवा नियुक्ति  
 पद नियुक्ति 653.6  
 सेवा निलंबन  
 सेवा निलंबन 653.14 ⇨  
 सेवा निलंबित  
 निलंबित 653.35  
 सेवा निवृत्ति  
 सेवा निवृत्ति 653.18 ⇨  
 सेवा पोत  
 रक्षा नौका 1072.32  
 सेवा बंदगी  
 पूजा 751.1  
 सेवा भाव  
 सेवा भाव 752.18 ⇨  
 सेवाभूक्त  
 ध्युत 653.36  
 सेवा मुक्ति  
 सेवा ध्युति 653.15  
 सेवा में उपस्थित होना  
 सादर उपस्थित होना 1021.7  
 सेवाधी  
 पद आवेदक 653.31  
 सेवा वृत्ति  
 सेवा 651.1  
 सेवाभ्रम  
 ईसाई मठ 745.10  
 सेवा चुकूना  
 परिचर्या 651.6  
 सेविंग्स अकाउंट (अँ)  
 बचत खाता 631.8  
 सेविंग्स फ्रंड अकाउंट (अँ)  
 बचत खाता 631.8

## सेविका

### सेविका

नर्स 175.7  
परिचारिका 651.29  
सेविका 651.26 ⇨

### सेवित

उपमुक्त 524.14  
परिचरित 651.27  
पूजित 751.23  
प्राप्तभोजन 181.51  
मुक्त 363.13

### सेविता

उपभोक्ता 524.16

### सेवी

आदी 836.9  
उपभोक्ता 524.16  
पूजक 751.3  
भक्षक 181.53

### सेव्य

आहार्य 197.22  
उपभोग्य 524.15  
पीपल 13.14  
पूजनीय 751.24  
श्रुति भर्ता 650.29

### सेव्यता

आहार्यता 197.12

### सेव्या

गौडर घास मूल 112.15

### सेह-

तीन 948.21

### सेहबंध

तिगुना 949.44

### सेहत

स्वास्थ्य 161.1

### सेहतनामा

चिकित्सा प्रमाण पत्र 494.13

### सेहतमंद

स्वस्थ 161.5

### सेहतमंदी

स्वस्थता 161.3

### सेहतयाव

चिकित्सित 171.19

### सेहतयावी

आरोग्य लाभ 171.11

### सेहरा

मज़ार चादर 255.9

सेहरा 802.26 ⇨

सेहरा काव्य 796.31

सेहरा पढ़ाई 800.52

सेहरा बंधाई 800.53

### सेहरा काव्य

सेहरा काव्य 796.31 ⇨

### सेहरा पढ़ाई

सेहरा पढ़ाई 800.52 ⇨

### सेहरा पाठ

सेहरा पढ़ाई 800.52

### सेहराबंधी

सेहरा बंधाई 800.53

### सेहरा बंधाई

सेहरा बंधाई 800.53 ⇨

### सेही

साही 127.70

### सेकपुजरी (अं)

अभचारण्य 12.9

### सेकुरी (अं)

शताब्दी 42.25  
शताब्दी जयंती 58.8

### सेकुरी (अं)

सी: समुदाय 687.18

### सेंट

सेंट 274.7 ⇨

### सेंट (अं)

सेंट 274.7

### सेंट (कालर में सेंट)

शताश उपमान सूची 949.24

### सेन्टर (अं)

केंद्र बिंदु 971.1  
केंद्रीय स्थान 971.5

### सेन्टर टेबल

सेन्टर टेबल 595.40 ⇨

### सेन्टर टेबल (अं)

सेन्टर टेबल 595.40

### सेंटिग्राम

सेंटिग्राम 962.55 ⇨

### सेंटिग्राम (अं)

सेंटिग्राम 962.55

### सेंटिग्रैड (अं)

ताप माप एकक 958.7  
सेल्सियस क्रम 103.7

### सेंटिमीटर (अं)

वर्षा माप सूची 958.40

### सेंटीऐर

सेंटीऐर 959.42 ⇨

### सेंटीऐर (अं)

सेंटीऐर 959.42

### सेंटीमीटर

सेंटीमीटर 959.17 ⇨

### सेंटीमीटर (अं)

सेंटीमीटर 959.17

### सेंट्रल (अं)

केंद्रीय सत्ता विषयक 899.23

### सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (अं)

केंद्रीय सचिवालय 654.13

### सेंट्रिपीटल क्रोस (अं)

अभिकेंद्र बल 1050.2

### सेंट्रिपीटलिटी (अं)

केंद्राभिसरण 971.12

### सेंट्रिप्रयुगल (अं)

केंद्रापसारी 971.27

### सेंट्रिप्रयुगल क्रोस (अं)

अपकेंद्र बल 1050.3

### सेंट्रिप्रयुगलिटी (अं)

केंद्रापसरण 971.13

### सेंड पेपर (अं)

रेगमाल 559.32

### सेंडल

सेंडल 588.13 ⇨

### सेंडल (अं)

सेंडल 588.13 \*

### सेंडविच

सेंडविच 202.38 ⇨

### सेंडस्टोन (अं)

बलुआ पत्थर 99.5

### सेंधय

घोड़ा 127.35

जयद्रथ 771.56

समुद्रीय 24.23

### सेंधयी

राग रागिनी सूची 457.24

### सेंधी

ताड मद्य 209.9

### सेंयी

प्रेमी 368.2

### सेंसर (अं)

सेसरशिप 429.10

### सेसरशिप

सेसरशिप 429.10 ⇨

### सेसरशिप (अं)

सेसरशिप 429.10

### सेंसस (अं)

जन गणना 616.1

### सेंहथ

भाला 92.4

### सेंहथी

छोटा भाला 925.5

### सेंहल

श्रीलकाई 27.30

### सेंहली

श्रीलकाई 27.30

### सेंहिकेय

दानव सूची 783.13

राहु 6.4

सिंहिका सतान 783.25

### सेंहिकेय कबंध

केतु 6.5

### सेंहिकेय शीर्ष

राहु 6.4

### से

सी 948.70

### सेकड

सेकड 50.10 ⇨

### सेकड (अं)

अंश साठवाँ भाग 960.13

दूसरा [दूसरी] 948.86

समय माप एकक 958.11

सेकड 50.10

### सेकड: 4/5

क्षण 50.11

### सेकड: 60

घक्र: साठवाँ भाग 960.11

### सेकंडिंग (अं)

अनुमोदन 329.2

### सेक (अं)

डीला जनाना कुरता 585.36  
बोरा 673.18

### सेकज

बलुआ पत्थर 99.5

### सेकड़ा

शतम लव प्रणाली 950.10

सेकड़ा स्थान 948.10

सी 948.70

### सेकड़ा: स्थान

सेकड़ा स्थान 948.10 ⇨

### सेकड़े

प्रति शत 947.31

### सेकत

दोमट 100.17

धूलिमय 100.24

बालू तट 25.18

मरुथल 11.11

रेतीला [रेतीली] 100.23

### सेकतिक

रेतीला [रेतीली] 100.23

सन्धारी 790.11

### सेकती

बालू तट 25.18

रेतीला [रेतीली] 100.23

### सेकरीन

सेकरीन 280.23 ⇨

### सेकरीन (अं)

सेकरीन 280.23

### सेक़ल

मार्जन 218.8

शस्त्र मार्जन 929.6

### सेक़लगर

मार्जक 218.39

शस्त्र मार्जक 929.10

### सेक़टर (अं)

नगर खंड 619.5

### सेक़ूलरिज़्म (अं)

इहलोकवाद 760.15

### सेक़ार्मेट (अं)

ईसाई संस्कार 798.30

### सेक़ेटरी (अं)

सचिव 652.23

### सेक़ेटरी जनरल (अं)

महा सचिव 652.25

### सेक़ेटेरिएट (अं)

सचिवालय 654.12

### सेक़ान (अं)

अनुभाग 937.4

चित्रांश 404.18

### सेक़ान आक्रिसर (अं)

अनुभागध्यक्ष 652.19

### सेक़ान इनचार्ज (अं)

अनुभागध्यक्ष 652.19

### सेक़सटेट (अं)

घक्र: छठा भाग 960.4

### सेचल

सेचल 673.3 ⇨

सैचल (अं)  
सैचल 673.3  
सैचुरेशन (अं)  
संसिक्त मिश्रण 1008.4  
सैघेट (अं)  
सैशो 673.22  
सैट (अं)  
उपकरण समुदाय 687.2  
बरतन सैट 680.18  
मघ सज्जा 471.18  
स्वीट 602.29  
सैटन (अं)  
शैतान 785.1  
सैटरडे (अं)  
शनिवार 46.9  
सैटर्न (अं)  
शनि ग्रह 7.8  
सैटलाइट (अं)  
कृत्रिम उपग्रह 1075.12  
सैटलाइट टीवी  
सैटलाइट टीवी 472.24 ⇨  
सैटायर (अं)  
व्याग्य 844.5  
व्याग्य रचना 450.30  
सैटिंग (अं)  
कंपोजिंग 413.11  
सैटिन (अं)  
साटन 580.44  
सैटी  
सैटी 595.19 ⇨  
सैटी (अं)  
सैटी 595.29  
सैडल (अं)  
जीन 595.47  
सैडिज्म (अं)  
उत्पीड़नोन्माद 353.19  
परपीडन 391.11  
सैडिस्ट (अं)  
परपीडक 391.30  
सैद्धांतिक  
सैद्धांतिक 343.16 ⇨  
सैद्धांतिकता  
आदर्शवादिता 829.3  
सैन  
नेत्र मुद्रा 464.32  
बाज़ गिट्ट 126.29  
संकेत 422.4  
सैन करना  
धितवन घंचल करना 284.35  
सैन चलाना  
धितवन घंचल करना 284.35  
सैनिक  
आयुधजीवी 922.11  
पहरेदार 908.9  
पैदल सैनिक 934.7  
प्रतिरक्षक 908.24  
युद्ध प्रेमी 907.42  
योद्धा 934.15

सैनिक 934.1 ⇨  
सैन्य 932.34  
सैनिक अभ्यास  
सैनिक अभ्यास 907.30 ⇨  
सैनिक उद्धान  
सैनिक उद्धान 1081.16 ⇨  
सैनिक खात  
सैनिक खात 604.21 ⇨  
सैनिकता  
युद्ध प्रेम 907.4  
सैनिकता 932.2 ⇨  
सैनिक प्रशासन  
सैनिक शासन 890.8  
सैनिक यात्रा  
युद्ध यात्रा 907.23  
सैनिक यान  
लैंडिंग क्राफ्ट 1072.50  
सैनिक यान 1070.16 ⇨  
सैनिक राकेट  
युद्धक राकेट 1075.3  
सैनिक लूटपाट  
सैनिक लूटपाट 864.25 ⇨  
सैनिक वाद्य  
युद्ध वाद्य 907.20  
सैनिक विमान  
युद्धक विमान 1074.17  
सैनिक वृत्ति  
सैनिकता 932.2  
सैनिक शासन  
सैनिक शासन 890.8 ⇨  
सैनिक शिक्षा  
धनुर्वेद 740.38  
सैनिक शिविर  
सैनिक शिविर 933.11 ⇨  
सैनिक संगीत  
युद्ध संगीत 907.16  
सैनिक सुलह  
युद्ध विराम 906.4  
सैनिकीकरण  
सैन्यीकरण 907.6  
सैनिकरी (अं)  
सुजीवितापूर्ण 170.11  
सैनिकेशन (अं)  
नागर सुजीविता 170.4  
सैनिकिसिटी (अं)  
सठियायापन 353.13  
सैनी  
क्षीर कर्मा 224.2  
सैनेटोरियम  
सैनेटोरियम 175.4 ⇨  
सैनेटोरियम (अं)  
सैनेटोरियम 175.4  
सैन्य  
सेना 932.1  
सैन्य 932.34 ⇨  
सैन्य अभ्यास  
ड्रिल 1083.6

सैन्य क्रम  
सेना व्यूह 907.8  
सैन्यपाल  
सेनापति 935.1  
सैन्य वाद्य  
युद्ध वाद्य 907.20  
सैन्य वास  
सेना छावनी 933.7  
सैन्य शिविर  
सेना छावनी 933.7  
सैन्य संगीत  
युद्ध संगीत 907.16  
सैन्य सज्जा  
सैन्यीकरण 907.6  
सैन्य सेवा  
रक्षा सेवा 890.10  
सैन्यीकरण  
सैन्यीकरण 907.6 ⇨  
सैन्यीकृत  
सैन्यीकृत 907.44 ⇨  
सैपर्स (अं)  
अग्रगामी सेना 933.2  
सैप्टिक होना  
पूयित होना 169.12  
सैक्रायर (अं)  
रत्न सूची 96.5  
सैबट (अं)  
लकड़ी जूता 588.16  
सैबोटार्ज (अं)  
तोड़फोड़ 539.4  
सैबोटार्जी  
तोड़फोड़ कर्ता 539.19  
सैमिनार (अं)  
अध्ययन गोष्ठी 694.6  
सैमिनारो (अं)  
ईसाई मठ 745.10  
सैमिकल (अं)  
अर्थ परिधि 972.8  
सैन्टर (अं)  
अध्ययन सत्र 322.8  
सैयद  
इमाम 744.16  
दल नायक 852.6  
सैयद की गाय  
इसलाम बलि गाय 754.17  
सैयदुश् शुहबा  
हुसेन 791.28  
सैय्यी  
पति 803.5  
स्वामी 621.2  
सैयाद  
आखेटक 252.2  
पक्षी आखेटक 252.11  
सैयारा  
चक्रित 1033.17  
चलिष्णु 1090.42  
सैयाल  
तरल 8C.5

सैयाह  
चलिष्णु 1090.42  
पर्यटनप्रिय 1090.41  
सैयाही  
चलिष्णुता 1090.2  
सैरंभ  
आवासीय सेवक 651.4  
दास 651.8  
सैरंभी  
अंतपुर दासी 651.11  
आवासीय सेविका 651.5  
सैरंभी (अज्ञातवासः नाम)  
द्वीपदी 771.64  
सैर  
आमोद यात्रा 1085.8  
आरोहण 1082.1  
शेहलक़दमी 1084.7  
पर्यटन 1090.6  
मंद गति 1045.2  
मनोरंजन 469.1  
वायु सेवन 1085.4  
विचरण 1085.1  
सैर करना  
पर्यटन करना 1090.40  
विचरना 1085.10  
सैरगाह  
पर्यटन स्थल 1090.8  
विचरण मार्ग 1063.17  
सैरबाा  
क्रीडा उपवन 12.14  
सैर यान  
सैर यान 1071.18 ⇨  
सैर सपाटा  
आमोद यात्रा 1085.6  
पर्यटन 1090.6  
सैरिक  
हल बैल 127.18  
हलवाहा 548.4  
सैरिक  
सैरिक 413.19 ⇨  
सैरिक (अं)  
सैरिक 413.19  
सैरिभ  
नर भैंस 127.20  
सैल  
आमोद यात्रा 1085.6  
जल प्रवाह 21.9  
पर्यटन 1090.6  
मनोरंजन 469.1  
विचरण 1085.1  
सैल 937.8 ⇨  
सैल (अं)  
कोशिका 129.3  
बैटरीः सैल 102.19  
सैल 937.8  
सैलम  
सुटेरा 864.22

## सैलर (अँ)

### सैलर (अँ)

विक्रेता 661.2

सैलर्स मार्केट (अँ)

माल कमी 656.4

### सैला

काष्ठ पटल 990.6

घण्टू दस्ता 1073.8

पघ्यड़ 938.27

फट्टा 990.8

### सैलानी

आमोद यात्री 1085.7

पर्यटक 1090.7

### सैलानी नगर

सैलानी नगर 620.18 ⇨

सैलानी पर्वतीय नगर

सैलानी पर्वतीय नगर 620.19 ⇨

### सैलानी मार्ग

विचरण मार्ग 1063.17

### सैलाब

बाड 22.1

### सैलाबी

जलीय धरातल 25.2

सिंचित खेत 551.15

### सैली

पघ्यड़ 938.27

### सैलून (अँ)

केश कर्तनालय 224.4

घित्रशाला 669.12

नृत्य शाला 471.8

### सैलो टेप

सैलो टेप 571.23 ⇨

### सैलो टेप (अँ)

सैलो टेप 571.23

### सैलोक्रेन

सैलोक्रेन 581.8 ⇨

### सैलोक्रेन (अँ)

सैलोक्रेन 581.8

### सैलक (अँ)

सैलकस्टार्टर 1078.23

### सैलकस्टार्टर

सैलकस्टार्टर 1078.23 ⇨

### सैलकस्टार्टर (अँ)

सैलकस्टार्टर 1078.23

### सैलक स्टार्टर (अँ)

स्वघालित्र 1046.8

### सैल्मन (अँ)

सामन 125.13

### सैल्यूट (अँ)

सलाम 1060.14

### सैल्यूट मुद्रा

सलामी मुद्रा 1060.18

### सैल्यूलाइड

सैल्यूलाइड 581.9 ⇨

### सैल्यूलाइड (अँ)

सैल्यूलाइड 581.9

### सैल्यूलोज (अँ)

रासायनिक वस्त्र सूची 579.15

### सैलियासः शून्यांक

हिमाक 103.15

### सैलियस (अँ)

ताप माप एकक 958.7

सैलियस क्रम 103.7

### सैलियस क्रम

सैलियस क्रम 103.7 ⇨

### सैलियसः तालिका

सैलियसः तालिका 103.8 ⇨

### सैशन (अँ)

अधिदेशन 694.14

### सैशे

सैशे 673.22 ⇨

### सैशे (अँ)

पैक प्रकार सूची 1014.3

सैशे 673.22

### सैहपहल

त्रिपाश्वीय 997.14

### सैहपहलू

त्रिपाश्वीय 997.14

### सैहबारा

तीसरी बार मे 73.11

### सैहबाबा

मंगलवार 46.5

### साँ

सादृश्य उक्ति सूची 309.26

### साँघर नमक

काला नमक 279.6

### साँटा

डंडा 923.5

साँटा 569.37 ⇨

### साँटा बरदार

लाठीधारी 930.17

### साँटी

धातु मेंडी लाठी 923.10

### साँठ

साँठ 201.5 ⇨

साँठ 281.35 ⇨

### साँथा [साँधी]

साँथा [साँधी] 197.47

### साँफ

साँफ 281.36

### साँह

शापथ 339.20

### साँहें

अभिमुखत 1023.15

### साँ

परिस्थिति मे 69.14

वह 316.14

सादृश्यः उक्ति सूची 309.26

### साँआ

साँआ 189.37 ⇨

### साँई

इस लिए 507.10

वैसा 317.31

### साँकना

शोक करना 383.5

### साँ कर उठना

जागना 265.5

### साँखा

अवशोषण 1002.10

शुष्क कर्ता 89.10

### साँखाना

अवशोषित करना 1002.20

घूसना 181.46

### साँखने वाला

अवशोषक 1002.30

### साँख पत्र

ब्लौटिंग पेपर 416.31

### साँखा

भूत निवारण कर्ता 759.9

### साँखा [साँखी]

अवशोषित 1002.29

### साँखाई

अवशोषण 1002.10

भूत निवारण 759.8

### साँखना

अवशोषक 1002.30

### साँदना

बारूद. पलीता 927.21

### साँखना

ब्लौटिंग पेपर 416.31

### साँगवार

मृत्यु शोकग्रस्त 253.39

शोकग्रस्त /383.8

### साँगवारी

मृत्यु संवेदना 253.17

### साँगिनी

वियोगिनी 388.9

### साँघ

खेद 380.1

धिता 377.2

परघालाप 380.4

विचार 330.1

विचार कोण 330.2

विचारण 330.5

### साँघग्रस्त

धिताग्रस्त 377.10

### साँघना

कल्पना करना 308.10

खेद होना 380.6

विचार करना 330.13

शोक करना 383.5

### साँघना परखना

विमर्श करना 330.16

### साँघना विचारना

विमर्श करना 330.16

### साँघना समझना

विमर्श करना 330.16

### साँघ में पड़ना

हिचकना 501.6

### साँघ विचार

दुबिधा 501.1

परामर्श 332.1

परिचर्चा 436.3

विचारण 330.5

विमर्श 330.11

विवेचना 427.13

### साँघ विचार कर

विचारिततः 330.29

### साँघ विचार करना

विमर्श करना 330.16

### साँघ समझ

विमर्श 330.11

### साँघ समझ कर

विचारिततः 330.29

सकल्पपूर्वक 500.16

### साँघा विचारा [साँघा विचारी]

विमर्शित 330.28

### साँघा समझा [साँघा समझी]

विमर्शित 330.28

### साँझ

उष्णता 104.1

ताप 103.1

दहन 108.1

मनोव्यथा 391.7

### साँझनी

सुजनी फ़र्शी चादर 593.31

### साँझरा

ताप 103.1

शोध 166.8

### साँटी

कमची 923.1

साँटा 559.37

### साँठ

साँठ 281.35

### साँडा

क्षार 87.10

साँडा 220.31 ⇨

साँडा 281.34 ⇨

साँडा वाटर 208.11

### साँडा (अँ)

साँडा 281.34

### साँडा बाइकार्ब (अँ)

साँडा 281.34

### साँडा वाटर

साँडा वाटर 208.11 ⇨

### साँडा वाटर (अँ)

साँडा वाटर 208.11

### साँड

धीर्यशील 394.15

सहा [सही] 872.17

### साँडव्य

सह्य 872.18

### साँडा

धीर्यशील 394.15

सहिष्णु 872.18

### साँडी

प्रहार सहन कर्ता 920.16

सहन कर्ता 872.19

सहिष्णु 872.18

### साँत

उत्क्रांत 21.1

**सोता**  
 उत्स्रोत 21 1  
 उत्स्रोत धारा 21 5  
 कूप उत्स्रोत 21.3  
 छोटी नदी 20 4  
 निर्झर 21 8  
 भूमिगत जलधारा 21 16

**सोतिया**  
 छोटा उत्स्रोत 21 4

**सोतिहा**  
 जलस्रोतयुक्त 21 34

**सोती**  
 कूप उत्स्रोत 21 3  
 वेदज्ञ 761 29  
 वेदज्ञ ब्राह्मण 731 18

**सोते जागते**  
 उठते बैठते 1049 18  
 हमेशा 1049 17

**सोते से जागना: कर्म**  
 उज्जागरण 265 3

**सोते से जागना: क्रिया**  
 जागरण 265 2

**सोते से निकली जलधारा**  
 उत्स्रोत धारा 21 5

**सोते सोते चलना**  
 सुप्ताटन करना 267 8

**सोत्केठ**  
 उद्दिग्म 377 13

**सोत्सास**  
 कटाक्षपूर्ण 844 13  
 द्वयर्थक उक्ति 426 22

**सोत्सव**  
 आनन्दपूर्ण 382 16  
 उत्सवपूर्ण 56 9  
 उत्सवपूर्वक 56 11  
 उत्साहपूर्वक 491 17

**सोत्साह**  
 उत्साहपूर्वक 491 17

**सोत्सुक**  
 धितितत 377 15  
 जिज्ञासु 305.45

**सोदर**  
 सगा भाई 723 18  
 सहोदर 723.27

**सोदरशय**  
 सोदरशायी 1027 17

**सोदर शयन**  
 सोदर शयन 1027.2 ⇨

**सोदरशायी**  
 सोदरशायी 1027.17 ⇨

**सोदरा**  
 सगी बहन 723.19

**सोदरी**  
 सगी बहन 723.19

**सोदेश्य**  
 उद्देश्यपूर्वक 508.12

**सोदेश्यता**  
 दिशानुगमन 1098.7

**सोद्वेग**  
 धितितत 377 15

**सोधना**  
 भुगतान करना 634 19

**सोन-**  
 पीला 289 54

**सोन किरवा**  
 जुगनू 122 22

**सोनघंषा**  
 घषा 14 15

**सोन चिड़िया**  
 सोहन चिड़िया 126 75

**सोनधिरि**  
 नटी 473 11  
 नर्तकी 462 14  
 नर्तकी देश्या 807 7

**सोनपंछी**  
 कीट सूची 122 12

**सोनपरी**  
 तितली प्यूपा 242 5

**सो न पाना**  
 सो न पाना 265 6 ⇨

**सोना**  
 असावधान होना 498 4  
 उत्तमता उपमान सूची 313 4  
 लेटना 1027 9

**सोना 266 11 ⇨**  
 स्वर्ण 95 4

**सोना: इच्छा**  
 निद्रा इच्छा 266.6

**सोना चौदी**  
 चौदी सोना 95 1  
 धन संपत्ति 624 10

**सोना चौदी: तार**  
 जरी 569 13

**सोना चौदी बाज़ार**  
 सोना चौदी बाज़ार 663 19 ⇨

**सोना चौदी: संगलन**  
 सोना चौदी संगलन 565 13 ⇨

**सोना पेट**  
 स्वर्ण खान 92 16

**सोनामाखी**  
 सोनामाखी 92 11 ⇨

**सोनार**  
 स्वर्ण कर्मी 566 2

**सोनिक स्पीड (अँ)**  
 स्वन गति 1042 ⇨

**सोनी**  
 स्वर्ण कर्मी 566.2

**सोने की चिड़िया**  
 घनाढ्य व्यक्ति 628.5  
 भारत 28.1

**सोने की लंका**  
 श्रीलंका 27.17

**सोने वाला**  
 शायी 1027.16

**सोनोमीटर (अँ)**  
 स्वन मापी 958.47

**सोप (अँ)**  
 साबुन 220.28

**सोपकरण**  
 उपकरणयुक्त 558 21

**सोपघार**  
 औपचारिकतापूर्ण 184 10  
 औपचारिकता पूर्वक 184 12

**सोपान**  
 जीना 613 1

**सोपानक**  
 सीढ़ी डडा 613 9

**सोपान कूप**  
 बावड़ी 19 10

**सोपान तट**  
 घाट 25 20

**सोपान पट**  
 पैड़ी 613.3

**सोपान पथ**  
 सोपान पथ 613.10 ⇨

**सोपान मार्ग**  
 सोपान पथ 613 10

**सोपान माला**  
 गोल जीना 613 2

**सोपान श्रेणी**  
 सीढ़ी 613 6

**सोपाय**  
 उपायपूर्ण 517.11  
 युक्तिपूर्वक 517 14

**सोपाश्रय**  
 साधार 1019.15

**सोफता**  
 अव्यस्तता 503.4

**सोफ़ा**  
 सोफ़ा 595 30 ⇨

**सोफ़ा (अँ)**  
 सोफ़ा 595 30

**सोफ़ा-कम-बैठ**  
 सोफ़ा-कम-बैठ 594.14 ⇨

**सोफ़ा-कम-बैठ (अँ)**  
 सोफ़ा-कम-बैठ 594.14

**सोफ़ा सैट**  
 सोफ़ा सैट 595.31 ⇨

**सोफ़ा सैट (अँ)**  
 सोफ़ा सैट 595.31

**सोफ़ियाना [सोफ़ियानी]**  
 सूफ़ियाना [सूफ़ियानी] 289.35

**सोभर**  
 प्रसूति कक्ष 244 7

**सोम**  
 अगुठ वसु सूची 777.8  
 कुबेर 779 4  
 चंद्रमा 8.2  
 दिव्यास्त्र सूची 928.2  
 मॉड 208.17  
 राग रागिनी सूची 457.24  
 विष्णु 768.1  
 शरीर 139 1  
 शिव 767.1

**सोम देव 773.49**  
 सोमरस 210.5  
 सोमवार 46.4

**सोम (दे. सोमरस)**  
 अमृत 177 1

**सोमकान्त**  
 चंद्रकाल मणि 96 17

**सोमकुल्या**  
 पीराणिक नदी सूची 20.23

**सोमवति**  
 जयद्रथ 771 56

**सोम देव**  
 चंद्रमा 8 2  
 सोम देव 773 49 ⇨

**सोम देवता**  
 सोम देव 773 49

**सोम धारा**  
 आकाश 2 1

**सोमनाथ**  
 ज्योतिर्लिंग सूची 746.19

**सोमप**  
 विष्णु 768 1  
 शिव 767.1

**सोमपायी 210.10**

**सोमपति**  
 इंद्र 773.5

**सोम पबमान**  
 आकाश गंगा 1.14

**सोम पान**  
 सोम पान 210.6 ⇨

**सोम पान करना**  
 सोम पान करना 210.8 ⇨

**सोमपायी**  
 सोमपायी 210 10 ⇨

**सोमपाल**  
 गंधर्व 778 3

**सोम पीना**  
 सोम पान करना 210.8

**सोम बंधु**  
 कुमुद 14.9  
 सूर्य 8.1

**सोमभक्ष**  
 सोम पान 210.6

**सोम यज्ञ**  
 यज्ञ सूची 753 2

**सोमयोनि**  
 देवता 772 1  
 ब्राह्मण 731.13

**सोमरक्ष**  
 गंधर्व 778.3

**सोम रक्षक**  
 देव गंधर्व 778.9

**सोमरस**  
 सोमरस 210.5 ⇨

**सोमरस पीना**  
 सोम पान करना 210.8

**सोमराज**  
 चंद्रमा 8.2

## सोम लता

सोम लता  
गोदावरी 20 14  
सोम वंश  
चंद्र वंश 731.22  
सोम बल्लिका  
अर्ध चंद्रमा छोर 8 7  
सोम बल्ली  
गज पिप्पली 281 14  
सोमवार  
सोमवार 46.4 ⇨  
सोम वीथी  
नक्षत्र चक्र 4 3  
सोम सिंधु  
विष्णु 768 1  
सोम सूक्त  
सूक्त सूची 741.15  
सोमांबुपा  
सोमपायी 210.10  
सोमांबु  
चंद्र किरण 288 2  
सोमा  
अप्सरा सूची 782 3  
यज्ञ उपकरण 753 21  
सोमाव  
सोमपायी 210 10  
सोमिका (प्र)  
अजनन कोशिका 130.6  
सोमीय  
चंद्राय 8.10  
सोमेश्वर  
कृष्ण 771.1  
शिवलिंग सूची 746.17  
सोमेटिक बैक्टीरिया (अं)  
काय विकिरण 173 3  
सोमोद्भव  
नर्मदा 20 16  
सोय  
वैसा 317 31  
सोयम  
तीसरा [तीसरी] 948.88  
सोया  
सोआ 189.37  
सोया [सोई]  
निद्रित 266.13  
सोया [सोई]  
अप्रयत्नशील 490.9  
अवसन्न 264 22  
असावधान 498.6  
मुकुलित 120.8  
स्पर्शानुभूतिहीन 269.13  
स्फूर्तिहीन 492.14  
सोयाबीन  
दलहन सूची 188.7  
सोयाबीन 188.17 ⇨  
सोरा  
धान सूची 187.12  
सोल (अं)  
जूता तला 588.27

सोलर हीटर  
सोलर हीटर 104.14 ⇨  
सोलर हीटर (अं)  
सोलर हीटर 104 14  
सोलह  
सोलह 948.49 ⇨  
सोलह आने  
अवश्यमेव 68 21  
अवश्यमेव उक्ति सूची 68 23  
शत प्रति शत 947 32  
सोलह उपचार  
बोडशोपचार 750 3  
सोलहः उपमान सूची  
सोलह उपमान सूची 948.50 ⇨  
सोलह-पचीस वर्षः अवस्था  
नवयीन 231.1  
सोलह लड़ीः मोती माला  
सोलह लड़ी मोती माला 228 44 ⇨  
सोलह वर्ष तक अवस्था  
बाल अवस्था 230 21  
सोलह वर्षः युवती  
बोडशी 231 5  
सोलह संस्कार  
सोलह संस्कार 798 2 ⇨  
सोलह संस्कार सूची  
सोलह संस्कार सूची 798.3 ⇨  
सोलह सिंगार  
सोलह सिंगार 222 2 ⇨  
सोलह सिंगार सूची  
सोलह सिंगार सूची 222 3 ⇨  
सोलही  
घृत सूची 481.2  
सोलहों आने  
पूर्णाशत 940 15  
सोल्बर (अं)  
धेपय्य सूची 1012.4  
रोंगा 94 13  
सोल्बर करना  
झलाई करना 565 22  
सोल्बरिंग आवरण (अं)  
झलाई उपकरण 565 5  
सोल्सास  
आनंदपूर्ण 382 16  
सोल्सुंड  
कटाक्षपूर्ण 844 13  
सोवन  
निद्रागम 266 2  
सोवनार  
शयन कक्ष 614.21  
सोशल वर्कर (अं)  
समाज सेवी 832.15  
सोशलिज्म (अं)  
समाजवाद 884.20  
सोम्ना  
उष्ण 104.18  
सोसाइटी (अं)  
संस्था 692.1

सोस्मि  
सोऽहम् 741 28  
सोई  
शपथ 339 20  
सोई  
सोऽहम् 741.28  
सोहंग  
सोऽहम् 741 28  
सोहंगी  
गोद भरार् 800 10  
सोहगी 802 8 ⇨  
सोहन  
शुगरी नायक 456 1  
शोभायुक्त 226 11  
सुदर 157 7  
सोहन चिक्रिया  
सोहन चिड़िया 126 75 ⇨  
सोहन हलवा  
सोहन हलवा 203 47 ⇨  
सोहना  
निराना 548 45  
प्रिय होना 369 6  
शोमान्वित होना 226 7  
सोहना [सोहनी]  
कलापूर्ण 402 3  
सोहनी  
झाड़ू 218 17  
निराई 948 31  
सोहबत  
मित्रता 705 1  
रति सयोग 237 10  
संगति 696 1  
सत्सग 749 21  
सोहबती  
पुरुष मित्र 705 2  
मित्रयुक्त 705 28  
संगी 696 2  
सोहमस्मि  
सोऽहम् 741 28  
सोऽहम्  
व्याहृति सूची 741.24  
सोऽहम् 741.28 ⇨  
सोहर  
सोहर गीत 796 19  
सोहर गीत  
सोहर गीत 796.19 ⇨  
सोहराना  
सहलाना 393.15  
सोहला  
मंगल गीत 798.15  
सोहर गीत 798.19  
सोहाग  
सुहाग गीत 798.29  
सोहागा  
पटेला 563.5  
सुहागा 281.33  
सोहान  
रेती 559.33

सोहासित  
ओप्यारिकतापूर्ण 184.10  
सोही [सोहिनी]  
शोभायुक्त 226 11  
सोई  
समक्षत् 1021 11  
सोई  
सादृश्यः उक्ति सूची 309 26  
सोईज  
सामान 666 3  
सोईजा  
वन्य पशु 127 2  
सोईठ  
सोठ 201 5  
सोठ 281 35  
सोईदर्य  
कलापूर्णता 402.1  
काव्य अलंकार 454 1  
सुदरता 157 1  
सोईदर्य अनुपात  
अग अनुपात 155 1  
सोईदर्य अनुभूति  
सोईदर्य बोध 398 2  
सोईदर्य प्रसाधन  
मेकअप सामग्री 225 9  
सोईदर्य प्रसाधन  
शुगार 222 1  
सोईदर्य, बोध  
सोईदर्य बोध 398 2 ⇨  
सोईदर्य बोधपूर्ण  
सोईदर्य बोधपूर्ण 398 9 ⇨  
सोईदर्य मान  
रूप अभिमान 860 6  
सोईदर्य वर्धक हावभाव  
अभिनय अलंकार 464 28  
सोईदर्यशाली [सोईदर्यशालिनी]  
सुदर 157 7  
सोईदर्यहीन  
असुदर 156 3  
कुडील 155 5  
सोईदर्यहीनता  
असुदरता 156 1  
सोईदर्यस्मक  
सोईदर्य बोधपूर्ण 398 9  
सोईदर्यानुभव  
सोईदर्य बोध 398.2  
सोईदर्यानुभूति  
सोईदर्य बोध 398.2  
सोईदर्यानुभूतिपूर्ण  
सोईदर्य बोधपूर्ण 398.9  
सोईध  
सुगंध 273.4  
सोईधना  
सुगंधित करना 274.30  
सोईधा [सोईधी]  
सुगंधित 274.31  
सुवासित (आहार) 281.41  
सोईधा [सोईधी] 187.47 ⇨



स्वादिष्ठ 275.20  
 सीनी  
 आभूषण व्यापारी 566.11  
 सीप  
 सिपुर्दगी 638.5  
 सीपना  
 सिपुर्द करना 638.13  
 सीपा [सीपी]  
 सिपुर्द 638.18  
 सीफ  
 पानं मसाला सूची 213.20  
 सीफ  
 सीफ 281.36 ⇨  
 सीफ  
 सीफ 281.36  
 सीरना  
 स्मरण करना 356.12  
 सीह  
 शपथ 339.20  
 सी  
 सी 948.70 ⇨  
 सी. (बीज रूप)  
 विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856.6  
 सीकन  
 सीत 803.9  
 सीकर (अं)  
 फुटबाल 477.9  
 सीकरायण  
 ऋषि मुनि सूची 789.17  
 सी करोज  
 अरब 948.79  
 सीकेट (अं)  
 सीकेट 102.14  
 सीकृत्य  
 सुडीलता 155.2  
 सीकेट  
 सीकेट 102.14 ⇨  
 सीक्तिक  
 सूक्त विषयक 741.22  
 सीख्य  
 सुख 390.2  
 सीगंध  
 शपथ 339.20  
 सीगंधिक  
 इत्र व्यापारी 274.29  
 नील कमल 14.5  
 सुगंधपूर्ण 273.15  
 सीगत  
 बुद्ध विषयक 793.17  
 बौद्ध धर्मावलंबी 737.7  
 सीगतिक  
 नास्तिकतावाद 780.14  
 बौद्ध धर्मावलंबी 737.7  
 बौद्ध भिक्षु 790.27  
 सीगात  
 उपहार 640.2  
 सीगाती  
 उपहारीय 640.12

सीगुना  
 सीगुना 949.49 ⇨  
 सीगुना [सीगुनी]  
 सीगुना 949.49  
 सीधिक  
 सिलाई कमी 577.2  
 सी छंदः काव्य  
 शतक 446.27  
 सीजना  
 पहनना 589.22  
 सजना 226.10  
 सीजन्य  
 दयालुता 834.4  
 सच्चरित्रता 810.2  
 सज्जनता 817.1  
 सीजा  
 आखेटित पशु 252.4  
 सीक  
 लिहाफ 593.11  
 सीत  
 प्रेम प्रतिद्विंद्विनी 368.5  
 सीत 803.9 ⇨  
 सीतन  
 सीत 803.9  
 सीतपन  
 शत्रुता 706.1  
 सीतिया डाह 803.10  
 सीत भाव  
 सीतिया डाह 803.10  
 सीतात्रिक दर्शन  
 छह नास्तिक दर्शन सूची 780.29  
 सीति  
 कर्ण 771.47  
 सीतिया  
 सीतिया 803.18 ⇨  
 सीतिया डाह  
 सीतिया डाह 803.10 ⇨  
 सीतियापन  
 सीतिया डाह 803.10  
 सीतेला [सीतेली]  
 सीतिया 803.18  
 सीतेला [सीतेली] 717.14 ⇨  
 सीतेलापन  
 असहोदरता 723.20  
 सीतेला पिता  
 सीतेला पिता 717.10 ⇨  
 सीतेला बाप  
 सीतेला पिता 717.10  
 सीतेला भाई  
 सीतेला भाई 723.22 ⇨  
 सीतेला मामा  
 सीतेला मामा 722.41 ⇨  
 सीतेली बहन  
 सीतेली बहन 723.23 ⇨  
 सीतेली माता  
 सीतेली माता 717.11 ⇨  
 सीतेले भाई बहन  
 सीतेले भाई बहन 723.21 ⇨

सीत्य  
 यान चालन 1079.2  
 सीत्र  
 सूती 568.15  
 सैद्धांतिक 343.18  
 सीत्रांतिक  
 बौद्ध संप्रदाय सूची 737.15  
 सीत्रामण  
 ऐंद्र 773.53  
 सीदा  
 क्रीत सामान 660.4\*  
 पण्य सामान 666.5  
 प्रेम 368.1  
 सामान 666.3  
 सीदा 658.3 ⇨  
 सीदाई  
 प्रेमासक्त 368.21  
 प्रेमी 368.2  
 सीदागर  
 विपणक 658.2  
 व्यापारी 657.2  
 सार्थ सदस्य 657.15  
 सीदागर फेरी  
 सीदागर फेरी 1083.17 ⇨  
 सीदागरी  
 यात्रिक व्यापार 657.11  
 विपणन 658.1  
 व्यापार 657.1  
 सीदागरी बही  
 खरीद विक्री बही 632.14  
 सीदागरी माल  
 पण्य सामान 666.5  
 सीदा तय होना  
 सीदा तय होना 658.12 ⇨  
 सीदामनी  
 अप्सरा सूची 782.3  
 यक्षिणी सूची 779.14  
 सीदामिनी  
 गंधर्वः स्त्री सूची 778.8  
 मेघ विद्युत 55.9  
 सीदाधिक  
 कन्याधन 802.1  
 दहेज 802.4  
 सीदा सेना  
 क्रय करना 660.14  
 सीदा सुलक  
 क्रीत सामान 660.4  
 सामान 666.3  
 सीदेबाजी  
 परक्रामण 658.8  
 सीदेबाजी 658.6 ⇨  
 सीदेबाजी करना  
 सीदेबाजी करना 658.11 ⇨  
 सीध  
 घाँदी 95.3  
 घूना 290.22  
 घूना पुता 291.20  
 पलस्तरित 599.41

पुता भवन 602.11  
 महल 602.32  
 सीधक  
 गंधर्व सूची 778.5  
 सीधकार  
 निर्माण उद्यमी 599.9  
 भवन निर्माता 598.2  
 राजगीर 599.20  
 सीनंद  
 बलराम नूसल 771.75  
 सीनंदी  
 बलराम 771.74  
 सीनिक  
 आखेटिय 252.31  
 सीपर्णय  
 गरुड़ 777.15  
 सीपिक  
 रसेदार 201.26  
 रसेदार भाजी 201.20  
 सी पीसे  
 शत प्रति शत 947.32  
 सीपिक पर्व  
 महाभारत. पर्व सूची 771.23  
 सी ष्ठी सवी  
 अक्षरयमेय 68.21  
 शत प्रति शत 947.32  
 सीप्ट कोक  
 सीप्ट कोक 110.9 ⇨  
 सीप्ट कोक (अं)  
 सीप्ट कोक 110.9  
 सीप्ट बोर्ड  
 सीप्ट बोर्ड 990.12 ⇨  
 सीप्ट बोर्ड (अं)  
 सीप्ट बोर्ड 990.12  
 सीप्ट काटर (अं)  
 य्यु जल 88.3  
 सीप्टडेअर  
 सीप्टडेअर 951.23 ⇨  
 सीप्टडेअर (अं)  
 सीप्टडेअर 951.23  
 सीबल  
 शकुनि 771.88  
 सीबली  
 गांधारी 771.53  
 सीबलेय  
 शकुनि 771.88  
 सीबलेयी  
 गांधारी 771.53  
 सी बार  
 अनेकदा 73.6  
 सीबीर  
 जयद्रथ 771.56  
 सीभद्र  
 अभिमन्यु 771.35  
 सीभद्रय  
 अभिमन्यु 771.35  
 सीभाग्य  
 कल्याण 710.2

## सौभाग्य अवसान

प्रसन्नता 381 1  
प्रिय संयोग 389.3  
प्रेम 368 1  
सनाथता 719 2  
सफलता 512.1  
समृद्धि 626.1  
सिंदूर 225.18  
सुहाग 803 11  
सौभाग्य 260 17 ⇨

सौभाग्य अबसान  
दुर्भाग्य आगमन 260.19

सौभाग्य आना  
सौभाग्य आना 260.24 ⇨

सौभाग्य काकिणी  
वधू 801.11

सौभाग्य कामना  
करवा चौथ 57 2  
गनगीर 57.6

सौभाग्य काल  
उन्नति काल 534 2

सौभाग्य चिह्न  
सुहाग चिह्न 803 14

सौभाग्य संतु  
मगल सूत्र 228 28

सौभाग्य दुर्भाग्य  
भाग्य 260 14

सौभाग्यप्रद  
कल्याणकारी 710 21

सौभाग्यवती  
विवाहित स्त्री उपाधि सूची 856 6  
सुहागन 803.13

सौभाग्यशाली  
सौभाग्यशाली 260.33 ⇨

सौभाग्यशाली [सौभाग्यशालिनी]  
सौभाग्यशाली 260.33

सौभाग्यहीनता  
वैधव्य 804.14

सौभाग्याकाकिणी  
विवाह आकाकिणी 799.62

सौम  
चंद्रिय 8.10

सौमनस्य  
अनुकूलता 885.8  
दयालुता 834 4

मित्रता 705 1  
सामंजस्य 702.1

सौमनस्य 705.18 ⇨

सौमनस्यपूर्ण  
सौमनस्यपूर्ण 705.30 ⇨

सौमनस्यहीनता  
वैमनस्य 706 10

सौमित्र  
अनुकूलता 885.8  
लक्ष्मण 770.49

शत्रुघ्न 770.58

सौमेधिक  
ऋषि 789.2

सिद्ध साधु 790.30

## सौम्य

अधंचल 860 25  
अप्रबल 488 14  
आवेशहीन 372 12  
कलापूर्ण 402 3  
कल्याणकारी 710 21  
कल्याण सूचक 710 22  
कोमल 269 18  
कोमल स्वभावी 837 11

कोमलहृदय 834 15  
कोमलाग 159 9

दिव्यास्त्र सूची 928 2  
बाई पुतली 141 7

बायों हाथ 149 4  
बुध ग्रह 7 5

मंद स्वरीय 299 23  
मृण्मय 545 34

विनम्र 733 19  
शात 372.9

शिव 767 1  
सुंदर 157.7

सौम्य गोल  
उत्तरी भूगोलार्ध 10 5

सौम्य ग्रह  
शुभ ग्रह 261 15

सौम्यता:  
विनम्रता 733 23

सौम्यता  
आवेशहीनता 372 3

कलापूर्णता 402 1  
कोमलता 269 4

क्रोधहीनता 372 4  
दयालुता 834 4

मृण्मयता 545.19  
विनम्रता 733.8

सुंदरता 157 1  
सौम्य ध्रुव तारा

उत्तर ध्रुव तारा 3 12

सौम्यवपु  
सुंदरकाय 158 11

सौम्या  
दुर्गा 776.7

सौम्याकार  
सुडील 155 4

सौम्यायन  
उत्तरायण 5 17

सौम्यवक्त्र  
वनस्पतियुक्तता 111.2

सौरंगिक  
विस्कोट खनिक 1018.9

सौरंगिक 1018.10 ⇨

सौर  
घादर 585.10  
दाहिनी पुतली 141.6

दैविक 772 40  
प्रसृति कक्ष 244 7

सूर्यीय 8.9

सौर क्रांति  
सूर्यक्रांति 5 12

सौरघर  
प्रसृति कक्ष 244 7

सौर ज्योतिष्यक  
राशिचक्र 4 4

सौरठी  
राग रागिनी सूची 457 24

सौर तापित्र (म)  
सोलर हीटर 104 14

सौर दिवस  
तारीख 44 1

सौरभ  
केसर 274 16  
सुगंध 273.4

सुगंधपूर्ण 273 15

सौरभवाह  
वायु 85.1

सौरभी  
पौराणिक गाय सूची 127.11

सौर मंडल  
सौर मंडल 7.1 ⇨

सौर मंडल: ग्रह सूची  
सौर मंडल ग्रह सूची 7.4 ⇨

सौर मंत्र  
मंत्र सूची 741 4

सौर मास  
सौर मास 43.3 ⇨

सौर वर्ष  
सौर वर्ष 42.13 ⇨

सौर समय  
स्थानीय समय 50 7

सौराष्ट्र  
कृष्ण: राज्य 771 14

सौराष्ट्री  
गोपी चंदन 100.14

सौरि  
शनि ग्रह 7 8

सूरजमुखी 14 25

सौरिक  
मध्यय 209.41

सौरी  
गाय 127.10  
सोहर गीत 796 19

सौरी मछली  
शफरी 125 12

सौर्य  
सूर्यीय 8 9

सौल  
साहुल 559 52

सौलक्षण्य  
सुलक्षणता 317.9

सौला  
साहुल 559.52

सौवर्ण  
स्वर्ण 95.4

सौवी [सौवी]  
सौवी [सौवी] 948.103 ⇨

सौवी अंश  
शतांश 949 23

सौवी भाग  
शतांश 949 23

सौवासिनी  
सुहागन 803.13

सौविदस्ल  
अंतपुर. पहरेदार 908.11

सौवीर  
जयद्रथ 771.56

नेत्राजन 225.22  
सिंध 27 23

सौवीरक  
बेर 190 28

सिंध 27 23

सौवीर/जन  
नेत्राजन 225 22

सौवीर्य  
जयद्रथ 771 56

सौव्रत्य  
निष्ठा 826 1

सौष्ठव  
उत्तमतमता 313 3

कलापूर्णता 402.1  
सुंदरता 157 1

सुडीलता 155 2

सौष्ठवपूर्ण  
कलामूर्ण 402 3

सुडील 155 4

सौष्ठवहीन  
असुंदर 156.3

कुडील 155 5

सौष्ठवहीनता  
असुंदरता 156.1

भदेसपन 403.3

सौस  
सौस 201.6 ⇨

सौस (अं)  
सौस 201 6

सौसनी  
हलका नीला 289.51

सौ: समुदाय  
सौ: समुदाय 687.18 ⇨

सौसर (अं)  
घाय काफ़ी: बरतन सूची 680.20

सौ साल  
शताब्दी 42 25

सौसुप्तिक  
प्रभाती गायक 460.35

सौ से अधिक  
शताधिक 948.104

सौ से ऊपर  
शताधिक 948 104

सौह  
शपथ 389.20  
समक्षतः 1021.11

सौहार्य  
दयालुता 834.4

**सीहार्दपूर्ण**

एकतापूर्ण 698 9  
स्वजन भावनापूर्ण 725 6

**सीहार्द**

मित्रता 705.1  
सज्जनता 817 1  
सदाशयता 817 4  
सीमनस्य 705 18  
स्वजन भावना 725 2

**सीहृद**

मित्रीय 705 25  
सुरधि 400 5  
सीदय बोध 398 2

**स्कंशा**

छलौंगता [छलौंगती] 1086 23

**स्कंद**

उछल 1030 8  
उछल कूद 1086 1  
कूदने वाला 1086 22  
थक्का 938 24  
देवता सेनानायक 772 9  
परपालित 720 25  
परपोषित पुत्र 720 9  
पारा 94 9  
राजा 882 6  
शिव पुत्र सूची 767 22  
स्कंद 773 50 ⇨  
स्प्रिंग 1050 19

**स्कंदक**

उछलने वाला 1030 30  
कूदने वाला 1086 22  
छलौंगता [छलौंगती] 1086 23  
पैदल सैनिक 934 7  
सैनिक 934 1

**स्कंद जननी**

पार्वती 776 9

**स्कंदजित**

विष्णु 768 1

**स्कंदता**

प्रतिनम्यता 1050 17  
संघलता 1037 3

**स्कंद धात्री माता**

कृत्तिका 774 30

**स्कंदन**

उछलन 1030 9  
प्रतिनमन 1050 18  
स्कंदन 81.5 ⇨

**स्कंदनशीलता**

प्रतिनम्यता 1050 17

**स्कंदन होना**

स्कंदित होना 81.10

**स्कंदः पत्नी**

देवसेना 774 47

**स्कंद पुराण**

पुराण सूची 740 17

**स्कंदः वाहन**

स्कंद वाहन 773.51 ⇨

**स्कंदित**

स्कंदित 81.17 ⇨

**स्कंदित अवस्था**

स्कंदित अवस्था 79 6 ⇨

**स्कंदितता**

स्कंदित अवस्था 79 6

**स्कंदित होना**

स्कंदित होना 81 10 ⇨

**स्कंदी**

निर्झरणील 21 38

**स्कंदीय**

स्कंदीय 773 56 ⇨

**स्कंध**

अध्याय 447 2  
खड 938 1  
तना 114 7  
दल 691 1  
दस्ता 932 24  
धर्माचार्य 790 2  
थक्का भाग 997 5  
पिंड 976 1  
यज्ञ उपकरण 753 21  
विभाग 937 3  
सभाग 937 1  
समूह 690 1  
सेना अंग 932 7  
स्कंध 147 3 ⇨  
स्टीक 666 9

**स्कंध कवच**

स्कंध कवच 921.10 ⇨

**स्कंध चाप**

काँवर 1071 20

**स्कंध नीका**

सारगा 1072 25

**स्कंध प्रदेश**

महावत सीट 595 46

**स्कंधः भार वाहक**

स्कंध भार वाहक 1061 23 ⇨

**स्कंध मणि**

गडा तावीज़ सूची 759 5

**स्कंधरुह**

बरगद 13 16

**स्कंधयह**

स्कंध भार वाहक 1061.23

**स्कंधयाह**

स्कंध भार वाहक 1061 23

**स्कंधावार**

सेना 932 1  
सेना छावनी 933 7

**स्कंधिक**

भार वाहक बैल 127 15

**स्कंधी**

वृक्ष 111 18

**स्कंधीय**

संभागीय 937 12

स्कंधीय 147.11 ⇨

**स्कंध्य**

स्कंधीय 147 11

**स्कर्ट**

स्कर्ट 586 13 ⇨

**स्कर्ट (अँ)**

फ्रोक 585 40  
फ्रोक घेर 585 74  
स्कर्ट 586 13

**स्कल्पघर (अँ)**

मूर्ति 406.1

**स्कवायर (अँ)**

क्षेत्रफल 966.1  
वर्ग आकृति 969.6  
स्कवायर किलोमीटर (अँ)  
वर्ग किलोमीटर 959 43

**स्कॉद**

स्कदीय 773 56

**स्कॉदिक**

स्कदीय 773 56

**स्काउट (अँ)**

अग्रगामी सेना 933.2  
टोही 336 27

**स्कार्फ**

स्कार्फ 584 18 ⇨

**स्कार्फ (अँ)**

गुलुबंद 585 5  
स्कार्फ 584 18

**स्की**

स्की 588.39 ⇨

**स्की (अँ)**

स्की 588 39

**स्कीइंग**

स्कीइंग 477.17 ⇨

**स्कीइंग (अँ)**

स्कीइंग 477 17

**स्कीम (अँ)**

कार्यक्रम 520 4  
परिकल्पना 520 5  
योजना 520 1

**स्कूटर**

स्कूटर 1071 51 ⇨

**स्कूटर (अँ)**

यग नीका 1072 10  
स्कूटर 1071 51

**स्कूबा (अँ)**

न्यास टैक 483 16

**स्कूबा सूट**

स्कूबा सूट 483 11 ⇨

**स्कूबा सूट (अँ)**

स्कूबा सूट 483 11

**स्कूल (अँ)**

शिक्षालय सूची 321 11

**स्केट**

स्केट 588.36 ⇨

**स्केट (अँ)**

स्केट 588.36

**स्केट आरोहण**

स्केटिंग 477.18

**स्केटिंग**

स्केटिंग 477.18 ⇨

**स्केटिंग (अँ)**

स्केटिंग 477 18

**स्केटिंग रिक**

स्केटिंग रिक 482.17 ⇨

**स्केटिंग रिक (अँ)**

स्केटिंग रिक 482.17

**स्केटस (अँ)**

स्केट 588 36

**स्कैडल (अँ)**

घोटाला 865 8

**स्कैच (अँ)**

रेखाचित्र 404 17

**स्कैम (अँ)**

घोटाला 865 8

**स्कोर (अँ)**

खेल प्राप्तांक 475.22  
रन 475.31  
सगीत कृति 457.6

**स्कोर बोर्ड**

स्कोर बोर्ड 950.18 ⇨

**स्कोर बोर्ड (अँ)**

खेल प्राप्तांक पटल 475.23

स्कोर बोर्ड 950.18

**स्कोच टेप (अँ)**

सेलो टेप 571.23

**स्कोटलैंडः बीन बाणा**

बीगपाइप 481.69

**स्कोलरशिप (अँ)**

छात्र वृत्ति 641 18

**स्क्रिप्ट (अँ)**

नाटक आलेख 466.4

**स्क्रिन (अँ)**

सिनेमा परदा 606.4

**स्क्रिनप्ले (अँ)**

पटकथा 466.5

**स्कू (अँ)**

पेघ 1016 19

प्रीपैलर 1073.3

**स्कूइंग (अँ)**

अधोचक्रण 1033.9

पेघन 1016.7

**स्कूड (अँ)**

प्रेरित 1016 48

**स्कू ब्राइवर (अँ)**

पेघकश 559.23

**स्कू प्रीपैलर (अँ)**

प्रीपैलर 1073.3

**स्ववायर (अँ)**

आवास चौक 619.4

**स्ववायर (अँ)**

महल्ला 619.6

**स्ववेडन**

स्ववेडन 932.33 ⇨

**स्ववेडन (अँ)**

स्ववेडन 932.33

**स्वदेश**

स्वदेश 477.21 ⇨

## स्ववैश (अँ)

### स्ववैश (अँ)

स्ववैश 477.21

### स्खलन

असफलता 513.1  
डगमगाहट 1084.11  
पतन 1031.1  
भूल 498.3  
लक्ष्य चूक 931.12  
विचलन 501.4  
आव 1032.1

### स्खलनशील

विचलनशील 501.12

### स्खलित

असफल 513.4  
टपका [टपकी] 1032.32  
पराजित 913.5  
पलायित 916.19  
लक्ष्य घ्युत 931.23  
लुडका [लुडकी] 1031.29  
विस्थापित 1036.13  
क्रियत 1032.26

### स्टंप (अँ)

क्रिकेट विकेट 482.14

### स्टडी (अँ)

अध्ययन 321.23  
अध्ययन कक्ष 614.8

### स्टडी करना

अध्ययन करना 321.35

### स्टर्न (अँ)

नौका पृष्ठ 1073.31

### स्टर्न पोस्ट (अँ)

कुदास 1073.26

### स्टॉप (अँ)

डाक टिकट 444.30  
मुद्रा 414.15

### स्टॉप पेपर (अँ)

दस्तावेजी कागज़ 412.22

### स्टाइल (अँ)

कला शैली 397.14

### स्टाफ़ (अँ)

कर्मचारी समूह 652.28

### स्टार

स्टार 464.17 ⇨

स्टार 588.32 ⇨

### स्टार (अँ)

अध्याय समापन सूचना 447.5  
तारा 3.2  
प्रमुख अभिनेता 464.7  
स्टार 588.32  
स्टार 464.17

### स्टारडम

स्टारडम 464.4 ⇨

### स्टारडम (अँ)

स्टारडम 464.4

### स्टारलेट

स्टारलेट 464.18 ⇨

### स्टारलेट (अँ)

स्टारलेट 464.18

### स्टार्च

स्टार्च 179.11 ⇨

### स्टार्च (अँ)

कलाक 220.22  
स्टार्च 179.11  
स्टार्ट करना  
गत्थरित करना 1046.14

### स्टार्टर

स्टार्टर 1078.24 ⇨

### स्टार्टर (अँ)

घालित्र 1046.7  
स्टार्टर 1078.24  
स्वघालित्र 1046.8

### स्टार्टिंग (अँ)

गत्थरण 1046.1  
स्टिकर (अँ)  
थिप्पी 938.15  
स्टिकिंग टेप (दे.)  
घेपय्य सूची 1012.4  
स्टिच

स्टिच 572.9 ⇨

### स्टिच (अँ)

निटिंग स्टिच 572.13  
स्टिच 572.9

### स्टिथिंग

स्टिथिंग 418.4 ⇨

### स्टिथिंग (अँ)

स्टिथिंग 418.4

### स्टिल (अँ)

स्थिर चित्र 405.3

### स्टिल फ़ोटोग्राफ़ (अँ)

स्थिर चित्र 405.3

### स्टीम इंजन (अँ)

वाष्प इंजन 1078.3  
वाष्प यान 1070.6

### स्टीम बोट (अँ)

वाष्प नौका 1072.11

### स्टीमर (अँ)

नौका सूची 1072.3

वाष्प पोत 1072.12

### स्टीम रोलर

स्टीम रोलर 1070.10 ⇨

### स्टीम रोलर (अँ)

स्टीम रोलर 1070.10

### स्टीयर (अँ)

घन माप एकक 958.5

### स्टीयरिंग (अँ)

कर्ण धारण 1080.6

### स्टीयरिंग व्हील (अँ)

दिशा नियंत्रण चक्र 1077.41

### स्टील (अँ)

इस्पात 93.11

### स्टीवार्ड

स्टीवार्ड 1080.24 ⇨

### स्टीवार्ड [स्टीवार्डिस] (अँ)

स्टीवार्ड 1080.24

### स्टूडियो (अँ)

चित्रांकन कक्ष 614.9

फ़िल्म स्टूडियो 471.20

### स्टूडेंट (अँ)

अध्ययता 321.51

### स्टूल

स्टूल 595.32 ⇨

### स्टूल (अँ)

कमोड 216.20

स्टूल 595.32

### स्टेज (अँ)

नाट्य जगत 470.2

मघ 695.12

रगमघ 471.14

### स्टेज प्रोग्राम (अँ)

मघ कार्यक्रम 468.2

### स्टेज प्रोपर्टी (अँ)

मघ सामग्री 471.19

### स्टेट (अँ)

प्रदेश 34.9

### स्टेटमेंट (अँ)

वक्तव्य 441.12

### स्टेटमेंट आफ़ अकाउंट (अँ)

लेखा चिट्ठा 632.22

### स्टेट रूम

स्टेट रूम 1073.39 ⇨

### स्टेट रूम (अँ)

स्टेट रूम 1073.39

### स्टेडियम

स्टेडियम 482.19 ⇨

### स्टेडियम (अँ)

स्टेडियम 482.19

### स्टेनलैस स्टील

स्टेनलैस स्टील 93.15 ⇨

### स्टेशन (अँ)

नगर 620.10

परिवहन स्थल 1069.1

रेलवे स्टेशन 1069.3

### स्टेशनरी

स्टेशनरी 415.1 ⇨

### स्टेशनरी (अँ)

स्टेशनरी 415.1

### स्टेशन बैगन (अँ)

बैन 1071.61

### स्टैज़ा (अँ)

गीत. पद 451.21

### स्टैंड (अँ)

आधार सूची 596.2

टेक स्टैंड 596.8

दर्शक अलिद 471.5

फलक आधार 404.32

### स्टैंडर्ड (अँ)

मानक 957.1

मानकयुक्त 957.7

### स्टैंडर्ड टाइम (अँ)

मानक समय 50.6

### स्टैंडर्डइज़ेशन (अँ)

मानकीकरण 957.2

### स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट (अँ)

मानक संस्थान 957.3

### स्टैंप पेपर (अँ)

दस्तावेजी कागज़ 412.22

### स्टैंप पेड

स्टैंप पेड 414.20 ⇨

### स्टैंप पेड (अँ)

स्टैंप पेड 414.20

### स्टैंसिल कापी (अँ)

साइक्लोस्टाइल 414.8

### स्टैंसिल प्रति (अँ)

अनुलिपि प्रकार सूची 414.6

### स्टैच्यू (अँ)

मूर्ति 406.1

### स्टैटिक ऐनर्जी (अँ)

स्थितिज ऊर्जा 101.3

### स्टैटिस्टिक्स (अँ)

आंकड़ा संख्या 949.1

सांख्यिकी 953.10

### स्टैटिस्टीशियन (अँ)

सांख्यिकी विद 953.11

### स्टैथोस्कोप

स्टैथोस्कोप 171.5 ⇨

### स्टैथोस्कोप (अँ)

स्टैथोस्कोप 171.5

### स्टैनोग्राफ़र (अँ)

आशुलेखक 412.15

### स्टैनोग्राफी करना

आशु लेखन करना 412.40

### स्टैप फ़ाइलर (अँ)

सोतेला पिता 717.10

### स्टैपल

स्टैपल 417.10 ⇨

### स्टैपल (अँ)

स्टैपल 417.10

### स्टैपलर

स्टैपलर 417.11 ⇨

### स्टैपलर (अँ)

स्टैपलर 417.11

### स्टैपलिंग मशीन (अँ)

स्टैपलर 417.11

### स्टैप्पी (अँ)

अतिरिक्त पहिया 1077.2

### स्टैरलाइज़र (अँ)

विसंक्रामक 170.9

### स्टोन

स्टोन 962.56 ⇨

### स्टोन (अँ)

स्टोन 962.56

### स्टोर (अँ)

दुकान 662.1

वितरण केन्द्र 656.9

### स्टोर हाउस (अँ)

भंडार घर 670.5

### स्टोरिंग (अँ)

भंडारण 670.1

### स्टोरी (अँ)

कथा कृति 450.3

मंज़िल 612.1

स्टोरेज विन  
स्टोरेज विन 671.24 ⇨  
स्टोरेज विन (अं)  
स्टोरेज विन 671.24  
स्टोर्ड (अं)  
भंडारित 670.25  
स्टोव  
स्टोव 109.22 ⇨  
स्टोव (अं)  
स्टोव 109.22  
स्टोवेज (अं)  
भार क्षमता सूची 966.6  
स्टोक  
स्टोक 666.9 ⇨  
स्टोक (अं)  
शोक सामान 666.6  
शेयर 628.13  
स्टोक 666.9  
स्टोक ऐक्सचेंज (अं)  
शेयर बाजार 628.15  
स्टोक धारी  
शेयरधारी 628.31  
स्टोक पत्र  
शेयर पत्र 628.14  
स्टोक मार्केट (अं)  
शेयर बाजार 628.15  
स्ट्रीकिंग  
स्ट्रीकिंग 588.8 ⇨  
स्ट्रीकिंग (अं)  
स्ट्रीकिंग 588.8  
स्ट्रीकिस्ट (अं)  
वितरक 656.8  
स्टीप (अं)  
परिवहन स्थल 1069.1  
स्टीप होना  
विराम होना 1048.3  
स्टीपिंग (अं)  
गति रोकथाम 1047.4  
विरामण 1048.2  
स्टीपेज (अं)  
विराम 1048.1  
स्ट्र (अं)  
नली 684.4  
स्ट्राइक (अं)  
हड़ताल 902.11  
स्ट्राइकी (अं)  
खाद्य फल सूची 190.2  
स्ट्राइबर्ड (अं)  
गत्ता 415.12  
स्ट्रिपर  
स्ट्रिपर 590.9 ⇨  
स्ट्रिपर (अं)  
स्ट्रिपर 590.9  
स्ट्रिपिंग  
स्ट्रिपिंग 590.8 ⇨  
स्ट्रिपिंग (अं)  
स्ट्रिपिंग 590.8

स्ट्रीकिंग  
स्ट्रीकिंग 590.10 ⇨  
स्ट्रीकिंग (अं)  
स्ट्रीकिंग 590.10  
स्ट्रीट (अं)  
गली 1063.49  
महल्ला 619.6  
सड़क 1063.33  
स्ट्रीट कार (अं)  
ट्राम गाड़ी 1071.62  
स्ट्रीट लैंप  
स्ट्रीट लैंप 285.29 ⇨  
स्ट्रीट लैंप (अं)  
स्ट्रीट लैंप 285.29  
स्ट्रीटवाकर  
स्ट्रीटवाकर 807.4 ⇨  
स्ट्रीम आऊ कौशलनेस (अं)  
स्मृति प्रवाह 352.13  
स्ट्रेंचर  
स्ट्रेंचर 1071.25 ⇨  
स्ट्रेंचर (अं)  
स्ट्रेंचर 1071.25  
स्ट्रोक (अं)  
तैराकी स्ट्रोक 483.3  
स्ट्रोग क्लम  
स्ट्रोग क्लम 630.8 ⇨  
स्ट्रोग क्लम (अं)  
स्ट्रोग क्लम 630.8  
स्तंब  
गुल्म 111.15  
स्तंभ  
अवरोध 1047.8  
आधार सूची 596.2  
गतिहीनता 1042.3  
तना 114.7  
निश्चलता 1038.2  
नीका बंधन. स्थान 1073.19  
प्रधान कर्मचारी 652.29  
बंधन. स्तंभ 554.16  
मूर्च्छा 264.5  
यज्ञ स्तंभ 753.19  
स्तंभ 607.7 ⇨  
स्थायी स्तंभ 447.16  
स्मारक. प्रकार सूची 77.13  
स्मारक स्तंभ 255.13  
स्तंभन  
आधारण 1019.5  
उत्थापन 1030.2  
गति स्तंभन 1047.6  
तंत्र क्रिया सूची 758.5  
स्तंभन 758.29 ⇨  
स्तंभन करना  
स्तंभन करना 758.37 ⇨  
स्तंभन कृत  
स्तंभन कृत 758.42 ⇨  
स्तंभन विद्या  
स्तंभन विद्या 758.28 ⇨

स्तंभनी  
स्तंभन विद्या 758.28  
स्तंभ नीका  
सारंगा 1072.25  
स्तंभ पथ  
क्लीइस्टर 745.24  
स्तंभ पूजा  
मंडप पूजन 800.32  
स्तंभ मंडप  
स्तंभ मंडप 600.13 ⇨  
स्तंभराज  
आधार स्तंभ 607.8  
स्तंभ लेखक  
स्तंभ लेखक 445.23 ⇨  
स्तंभ वृत्ति  
श्यास साधन 245.10  
स्तंभाकार  
सिलंडराकार 976.23  
स्तंभालिद  
स्तंभालिद 610.9 ⇨  
स्तंभिन  
आधारित 1019.17  
आश्चर्यित 379.8  
निश्चल 1038.8  
वाधारुद्ध 429.27  
सहमा [सहमी] 395.21  
स्तंभन कृत 758.42  
स्तंभित करना  
स्तंभन करना 758.37  
स्तंभितता  
आश्चर्यितता 379.2  
गति रुद्धता 1047.3  
सहम्य 395.4  
स्तंभी  
आधार दाता 1019.20  
उत्थापक 1030.22  
स्तंभेश्वर  
शिवलिंग सूची 746.17  
स्तंभधय  
दुग्धमूत्रा [दुग्धमूत्री] 230.32  
स्तन 207.21  
स्तनंधयता  
दुग्धमूत्रापन 230.5  
स्तन  
घुसनी 684.2  
स्तन 146.6 ⇨  
स्त्री स्तन 146.7  
स्तन आवरण  
अँगिया. कटोरी 585.68  
स्तन कलश  
उभरा स्तन 158.5  
स्तनक शिरोमणि  
वानर 127.89  
स्तनका: (श)  
स्तनपायी. जीव 121.13  
स्तन कोरक  
नवोका: स्तन 146.8

स्तन ग्रह  
स्तन पान 207.13  
स्तन ब्रूजुक  
स्तनाग्र 146.9  
स्तन त्याग कराना  
स्तन त्याग कराना 207.18 ⇨  
स्तन बान करना  
स्तन दान करना 207.17 ⇨  
स्तन: दुग्ध भाग  
दुग्धाराय 146.11  
स्तनप  
दुग्धमूत्रा [दुग्धमूत्री] 230.32  
स्तन पान  
स्तन पान 207.13 ⇨  
स्तनपायी  
स्तनपायी 207.21 ⇨  
स्तनपायी जीव 121.13  
स्तनपायी जीव  
स्तनपायी जीव 121.13 ⇨  
स्तनवती  
स्तनवती 146.15 ⇨  
स्तनहीना  
स्तनहीन्य 146.16 ⇨  
स्तना  
स्तनवती 146.15  
स्तनाग्र  
स्तनाग्र 146.9 ⇨  
स्तनावरण  
ओड़नी 585.9  
स्तनित  
घोर ध्वनित 294.29  
स्तनी  
स्तनपायी जीव 121.13  
स्तनवती 146.15  
स्तनीय  
स्तनीय 146.14 ⇨  
स्तन्य  
दूध 193.2  
धारोण दूध 193.5  
स्तनीय 146.14  
स्तन्य त्याग कराना  
स्तन त्याग कराना 207.18  
स्तन्य बात्री  
स्तन्य बात्री 207.15 ⇨  
स्तन्य बान  
स्तन्य दान 207.14 ⇨  
स्तन्यप  
स्तनपायी 207.21  
स्तन्यपता  
दुग्धमूत्रापन 230.5  
स्तन्यपायी  
दुग्धमूत्रा [दुग्धमूत्री] 230.32  
स्तनपायी 207.21  
स्तन्यक  
केस गुच्छ 137.5  
पुष्प गुच्छ 12.34  
स्तन्य  
आश्चर्यित 379.8

## स्तब्ध करना

घेतनाहीन 264 20  
निरुत्तर 335 10  
निश्चल 1038 8  
मूर्च्छित 264 23  
वाधारुद्ध 429.27  
सहमा [सहमी] 395 21  
स्तम्भन कृत 758 42  
**स्तब्ध करना**  
स्तम्भन करना 758 37  
**स्तब्धता**  
अनुभूतिहीनता 264 1  
आश्चर्यायितता 379 2  
घेतनाहीनता 264 2  
निश्चलता 1038 2  
वाधारुद्धता 429.8  
सहमापन 395 4  
**स्तब्धन**  
स्तम्भन 758 29  
**स्तब्धरोमा**  
रोमांचित 382 21  
**स्तब्धलौचन**  
ताकने वाला 284 53  
**स्तब्ध होना**  
आर्तकित होना 395 15  
सहमना 395 15  
**स्तार**  
जल उत्तल 985 5  
जीवन स्तार 625 1  
तल 985.1  
तह 975.15  
पटल 990.3  
भूगर्भ संस्तर 97  
भू पर्पटी 99  
मानक 957.1  
विकास स्थिति 534 5  
संस्तर 990.1  
**स्तारण**  
छितराव 688.8  
विछन 592.3  
संस्तरण 990.2  
**स्तार निरूपण**  
मानकीकरण 957 2  
**स्तार पर**  
उत्तल पर 985.19  
**स्तार मान**  
समीक्षा मापदंड 398 4  
**स्तारयुक्त**  
मानकयुक्त 957.7  
संस्तरित 990.30  
**स्तार विन्यास**  
संस्तरण 990.2  
**स्तार विभाजन**  
विदीर्घन 544.3  
**स्तार शैल**  
स्तार शैल 99.13 ⇨  
**स्तार सूचक संख्या**  
पूरण संख्या 949 10

**स्तरस्थ**  
उत्तलीय 985 16  
**स्तरहीन**  
अमानक 957.8  
**स्तरहीन बहुलेखक**  
स्तरहीन बहुलेखक 448.3 ⇨  
**स्तरिका**  
संस्तर 990 1  
**स्तरित**  
पटलित 990 31  
विद्या [विधी] 592 16  
संस्तरित 990.30  
**स्तरित करना**  
संस्तरित करना 990 28  
**स्तरीकरण**  
मानकीकरण 957 2  
**स्तरीय**  
उत्तम 313 13  
तलीय 985.14  
मानकयुक्त 957 7  
**स्तरीयता**  
उत्तमतमता 313.3  
समतलता 986.1  
**स्तय**  
स्तोत्र 741.16  
**स्तयक**  
गुच्छा 686 17  
प्रशंसक 841 31  
**स्तयन**  
अभिनदन 854 8  
प्रशंसन 841.4  
**स्तवरक**  
आच्छादन कर्ता 592.14  
घादर 593.17  
**स्तवि**  
साम गायक 741.13  
**स्तविता**  
प्रशसा गायक 841 11  
**स्तान**  
देश 34.10  
स्थान .33 1  
**स्ताव**  
कीर्तन 749.30  
प्रशसा 841 1  
स्तोत्र 741 16  
**स्तावक**  
प्रशंसक 841.31  
**स्तमित**  
गतिहीन 1042 12  
स्तम्भन कृत 758.42  
**स्तोर्ण**  
विद्या [विधी] 592.16  
**स्तुत**  
अभिनन्दित 854.21  
ख्यात 847.3  
पूजित 751.23  
प्रशंसित 841.29

**स्तुति**  
दुर्गा 776 7  
पूजा 751.1  
प्ररोधना 468 23  
प्रशसा 841 1  
प्रशसा गीत 841 6  
मंत्र 741 1  
स्तोत्र 741 16  
**स्तुति करना**  
प्रशसा करना 841.24  
**स्तुति कर्ता**  
पूजक 751 3  
प्रशंसक 841 31  
**स्तुति गाना**  
प्रशसा गाना 841 25  
**स्तुति गायक**  
प्रशसा गायक 841.11  
**स्तुति गायन**  
प्रशसा गायन 841 10  
**स्तुति गीत**  
स्तोत्र 741 16  
**स्तुतिप्रिय**  
घादुकारिता प्रेमी 841 36  
**स्तुति मंत्र**  
ऋचा 741 7  
पूजा गीत 749.25  
स्तोत्र 741.16  
**स्तुत्य**  
प्रशंसनीय 841.30  
**स्तुधि**  
यज्ञ 753 1  
**स्तूप**  
कलश 745 43  
टीला 16.1  
ढेर 686 6  
बौद्ध मंदिर 745.39  
भवन कुरसी 610.5  
शिखर 982.6  
समाधि मंदिर 745.40  
स्तूप 255.10 ⇨  
स्मारक प्रकार सूची 77.13  
**स्तूप: अस्थिकक्ष**  
स्तूप: अस्थिकक्ष 255.11 ⇨  
**स्तूप: अस्थिपात्र**  
स्तूप: अस्थिपात्र 255.12 ⇨  
**स्तूपाकार**  
स्तूपाकार 976.21 ⇨  
**स्तूपीय**  
राशि विषयक 686.21  
**स्तुति**  
व्याप्ति 981.5  
**स्तोन**  
घोर 864.3  
**स्तोय**  
गुप्त कार्य 824.5  
घोर 864.3  
घोरी: माल 864.8

**स्तेयी**  
घोर 864 3  
**स्तोक**  
घातक 126 39  
**स्तोतव्य**  
पूजनीय 751 24  
सम्मान्य 854.20  
**स्तोता**  
पूजक 751.3  
प्रशंसक 841 31  
प्रशसा गायक 841.11  
स्तोत्र गायक 460.36  
**स्तोत्र**  
पूजा गीत सूची 749 28  
प्रशसा गीत 841.6  
मंत्र 741.1  
स्तोत्र 741.16 ⇨  
**स्तोत्रकारी**  
स्तोत्र गायक 460.36  
**स्तोत्र गायक**  
स्तोत्र गायक 460.36 ⇨  
**स्तोत्र पढ़ना**  
प्रशसा करना 841.24  
**स्तोत्र पाठक**  
स्तोत्र गायक 460.36  
**स्तोभ**  
उत्थापन 1030 2  
स्तम्भन 758 29  
**स्तोम**  
ढेर 686 6  
प्रशसा गीत 841 6  
मंडार 670 3  
यज्ञ 753 1  
विशाल संख्या 949.5  
स्तोत्र 741.16  
**स्तथान**  
पिंडित 81.19  
सघन अवस्था 79.8  
**स्त्रियोधित**  
स्त्रीत्वपूर्ण 236.24  
**स्त्रीश्रिय**  
भग 152 13  
**स्त्री**  
पत्नी 803.6  
स्त्री 236.3 ⇨  
स्त्री उपाधि सूची  
स्त्री उपाधि सूची 856.4 ⇨  
स्त्री: कमरबंद  
स्त्री: कमरबंद 571.9 ⇨  
**स्त्रीकाम**  
विवाह आकांक्षी 799.61  
स्त्री का विवाह होना  
स्त्री का विवाह होना 799.44 ⇨  
स्त्री कोशा  
किंबाणु 130.7  
स्त्री खतना  
स्त्री खतना 798.27 ⇨

**स्त्री चरित्र**  
स्त्री नाज़ नख़रा 860 2  
**स्त्री छल**  
स्त्री नाज़ नख़रा 860 2  
**स्त्री जननेंद्रिय**  
स्त्री जननेंद्रिय 152.12 ⇨  
**स्त्री जनिद**  
डिबिद 132 12  
**स्त्रीत्वपूर्ण**  
स्त्रीत्वपूर्ण 236.24 ⇨  
**स्त्रीधन**  
पत्नीधन 802 3  
स्त्रीधन 623 4 ⇨  
**स्त्री धव**  
पति 803.5  
**स्त्री नाज़ नख़रा**  
स्त्री नाज़ नख़रा 860.2 ⇨  
**स्त्री नृत्य**  
स्त्री नृत्य 462 4 ⇨  
**स्त्री परिधान**  
स्त्री परिधान 583 10 ⇨  
**स्त्री पर्व**  
महाभारत पर्व सूची 771.23  
**स्त्री पात्रः पुरुष अभिनेता**  
स्त्री पात्र पुरुष अभिनेता 464 10 ⇨  
**स्त्रीपुर**  
जनानख़ाना 614 20  
**स्त्री पुरुष**  
दपती 803 4  
स्त्री पुरुष 236.1 ⇨  
**स्त्रीप्रिय**  
अशोक 13 4  
आम वृक्ष 13 5  
**स्त्री भाव**  
स्त्री भाव 752 19 ⇨  
**स्त्री भेद सूची**  
स्त्री भेद सूची 236.6 ⇨  
**स्त्री माया**  
स्त्री नाज़ नख़रा 860 2  
**स्त्री मित्र**  
स्त्री मित्र 705.3 ⇨  
**स्त्री मूर्ति**  
धातु स्त्री मूर्ति 406 12  
**स्त्रीय**  
स्त्रीय 236 23 ⇨  
**स्त्री रज**  
रज 130 9  
**स्त्रीरत्न**  
महान स्त्री 839 4  
लक्ष्मी 775.1  
**स्त्री राशि**  
समसंख्या 949 8  
**स्त्रीराशिक**  
समसंख्यक 949.29  
**स्त्री रोग चिकित्सक**  
स्त्री रोग चिकित्सक 173.9 ⇨  
**स्त्री रोग चिकित्सा**  
स्त्री रोग चिकित्सा 173.8 ⇨

**स्त्रीलंपट**  
लफ़ंगा 811 8  
**स्त्रीः लट**  
स्त्री लट 223.16 ⇨  
**स्त्रीलिंग**  
स्त्रीलिंग 425.5 ⇨  
**स्त्री वियोग**  
विधुरता 804 18  
**स्त्री वेशः पुरुष अभिनेता**  
स्त्री पात्र पुरुष अभिनेता 464 10  
**स्त्री वेशः पुरुष नृत्य**  
स्त्री वेश पुरुष नृत्य 462 5 ⇨  
**स्त्रीव्रत**  
पत्नीव्रत 805 5  
**स्त्रीसुख**  
सहजन 13 24  
**स्त्री सुलभ**  
स्त्रीत्वपूर्ण 236 24  
**स्त्री सेना**  
स्त्री सेना 932.6 ⇨  
**स्त्री स्तन**  
स्त्री स्तन 146 7 ⇨  
**स्त्रीण**  
कनकना [कनकनी] (स्तर) 299 27  
कापुरुष 395 29  
नपुसक 238 18  
स्त्रीत्वपूर्ण 236 24  
स्त्रीण 236.25 ⇨  
हिजड़ा 238 5  
**स्त्रीणता**  
कापुरुषता 395 12  
नपुसकता 238 4  
**स्त्र्यध्यक्ष**  
अतःपुर पहरदार 908 11  
**स्त्र्युधित**  
स्त्रीत्वपूर्ण 236 24  
**स्थंडिल**  
यज्ञ स्थान 753 17  
समतल भूमि 986.3  
**स्थंडिलशाय**  
भूमिशायी 1027 21  
**स्थंडिल शायी**  
भूमिशायी 1027 21  
**स्थ**  
आधारित 1019 17  
आसीन 1028 10  
उपस्थित 1021 9  
निरचल 1038 8  
प्रवृत्त 502 10  
स्थित 1020.8  
**स्थग**  
बेईमान 816.5  
**स्थगन**  
स्थगन 495.2 ⇨  
**स्थगित**  
निवारित 920 17  
स्थगित 495.13 ⇨

**स्थगित करना**  
स्थगित करना 495 7 ⇨  
**स्थपति**  
कुबेर 779 4  
यज्ञपति 753 4  
राजगीर 599 20  
विश्वकर्मा 773.44  
शिय 767.1  
स्थपति 599.2 ⇨  
**स्थपतिः उपमान सूची**  
स्थपतिः उपमान सूची 599 3 ⇨  
**स्थपति कर्म**  
स्थापत्य 599.1  
**स्थपन**  
निरचलन 1038 3  
स्थितन 1020 3  
**स्थपनी**  
भूमध्य 141 12  
**स्थपित**  
स्थित 1020 8  
**स्थपित करना**  
स्थित करना 1020 7  
**स्थपित होना**  
स्थित होना 1020 6  
**स्थल**  
क्षेत्र 34 1  
थलीय घरातल 25 3  
मैदान 11 1  
सदर्भ 437 3  
स्थान 33 1  
**स्थलघर**  
थलघर जीव 121 7  
**स्थल चित्र**  
प्रकृति चित्र 404 4  
**स्थल डाक**  
स्थल डाक 444.25 ⇨  
**स्थल पथ**  
थल मार्ग 1063 9  
**स्थल प्रदर्शक**  
पर्यटन प्रदर्शक 1090 18  
**स्थल मार्ग**  
थल मार्ग 1063 9  
**स्थलयान**  
थलयान 1071.1  
**स्थल युद्ध**  
थल युद्ध 905 12  
**स्थलवासी**  
थलवासी 616 18  
**स्थल विग्रह**  
थल युद्ध 905.12  
**स्थल विहंग**  
उकानहीन पक्षी 126.4  
**स्थल संधि**  
थलप्रीया 26.11  
**स्थल सेना**  
थल सेना 932.15  
**स्थल सैनिक**  
थल सैनिक 934 6

**स्थला**  
थाला 551 23  
**स्थली**  
क्षेत्र 34.1  
थलीय घरातल 25.3  
पृथ्वी 9.1  
फ़र्श 610 1  
सपूर्ण घरातल 25 1  
**स्थलीय**  
क्षेत्र स्तरीय 35 2  
थलीय 25 30  
पृथ्वीय 9 21  
**स्थथिर**  
आदरणीय 854.18  
ऋषि 789 2  
जैन साधु 790.24  
ब्रह्मा 766 1  
मठाधीश 744.1  
युद्ध पुरुष 232 4  
स्थथिर 744 44 ⇨  
स्थायर 1038 7  
**स्थथिरता**  
युद्धता 232.2  
**स्थथिरता**  
मठाधीश स्त्री 744 2  
युद्ध स्त्री 232 5  
सन्ध्यासिनी 790.12  
साधु स्त्री 790.17  
**स्थथिल**  
भूमिशायी 1027.21  
**स्थथई**  
दीर्घ कालीन 37 10  
शाश्वत 37 7  
**स्थथानु**  
पल्लवहीन वृक्ष 111.26  
शाखापल्लवहीन तना 114.8  
**स्थथानुला**  
अवियलता 500.5  
**स्थथान**  
अंतराल 33.9  
उच्चारण स्थान 411.9  
उपासना स्थल 745.15  
क्षेत्र 34.1  
गुंजाइश 33.8  
गृह 601 1  
तीर्थ स्थान 1089.10  
देश 34.10  
धारण क्षमता 986.4  
नगर 820.10  
नगर क्षेत्र 620.13  
पता 444.13  
पदवी 652.1  
प्रसंग अवसर 437.2  
महत्त्वा 619.6  
राज्य अंग 881.24  
लोक 258.1  
विकास स्थिति 534 5  
संगीत स्वर 459.1

## स्थानक

संदर्भ 437 3  
स्थान 33.1 ⇨  
स्थानक  
थाना 866.8  
नृत्य मुद्रा 464.35  
मंडल 464.24  
स्थानक 464.28 ⇨  
स्थान क्रम  
प्रधाक्रम 991 11  
स्थान ग्रहण करना  
बैठना 1028.8  
स्थानध्युत  
ध्युत 653.36  
विस्थापित 1038.13  
स्थान ध्युति  
विस्थापना 1036.2  
स्थान छोड़ना  
स्थान त्यागना 1036.10  
स्थान त्याग  
विस्थापना 1036.2  
स्थान त्यागना  
स्थान त्यागना 1036.10 ⇨  
स्थान देवता  
स्थान देवता 772.22 ⇨  
स्थानपति  
थानेदार 866.9  
मठ मंदिर प्रबंधक 744.3  
शासक 890.5  
स्थान देवता 772.22  
स्थानीय शासक 891 2  
स्थान पर  
स्थानापन्नतः 653.40  
स्थान पर होना  
स्थित होना 1020 6  
स्थान परिवर्तन  
स्थान परिवर्तन 1036.1 ⇨  
स्थान परिवर्तन करना  
स्थान परिवर्तन करना 1036.9 ⇨  
स्थानपाल  
ग्रामः पहरेदार 908.12  
स्थान देवता 772 22  
स्थान पालन  
स्थानीय शासन 891.1  
स्थान प्राप्ति  
पद नियुक्ति 653.6  
स्थान इबलना  
स्थान परिवर्तन करना 1036.9  
स्थानबद्ध  
नज़र क़ैदी 868.41  
स्थान भ्रंश  
विस्थापना 1036 2  
स्थानभ्रष्ट  
विस्थापित 1036.13  
स्थान विहरण  
पथ प्रदर्शिका 1087.28  
स्थान संख्या  
पूरण संख्या 849.10

स्थानस्थ  
नियुक्त 653.32  
प्रवाहहीन 1041.9  
स्थावर 1038.7  
स्थित 1020.8  
स्थानस्थ करना  
स्थित करना 1020.7  
स्थानस्थतः  
स्थानस्थतः 1020.13 ⇨  
स्थानस्थता  
स्थितता 1020 2  
स्थानस्थ होना  
स्थित होना 1020.6  
स्थानहीन  
संकीर्ण 980.29  
स्थानहीनता  
संकीर्णता 980 11  
स्थानांतरण  
स्थानांतरण 653 19 ⇨  
स्थानांतरण (बै.)  
स्थान परिवर्तन 1036.1  
स्थानांतरण होना  
स्थानांतरित होना 653.28  
स्थानांतरित  
स्थानांतरित 653.37 ⇨  
स्थानांतरित होना  
स्थानांतरित होना 653.28 ⇨  
स्थानाधिपति  
स्थानीय शासक 891.2  
स्थानाध्यक्ष  
थानेदार 866 9  
स्थान देवता 772.22  
स्थानीय शासक 891 2  
स्थानाध्यक्षता  
स्थानीय शासन 891.1  
स्थानानुसार आचरण  
स्थानानुसार आचरण 808.4 ⇨  
स्थानापन्न  
स्थानापन्न 653.38 ⇨  
स्थानापन्नतः  
स्थानापन्नतः 653.40 ⇨  
स्थानापन्नता  
स्थानापन्नता 653.20 ⇨  
स्थानापन्न व्यक्ति  
स्थानापन्न व्यक्ति 653.21 ⇨  
स्थानाभाव  
संकीर्णता 980.11  
स्थानिक  
क्षेत्र स्तरीय 35.2  
थानेदार 866.9  
मठ मंदिर प्रबंधक 744.3  
स्थानी  
मठ मंदिर प्रबंधक 744.3  
स्थानीय  
क्षेत्र स्तरीय 35.2  
स्थानीय आचार  
आंचलिक प्रवृत्ति 453.14

स्थानीयता  
क्षेत्र स्तरीयता 35.1  
स्थानीय पता  
अस्थायी स्थान 618.15  
स्थानीय बाज़ार  
स्थानीय बाज़ार 663.6 ⇨  
स्थानीय शासक  
स्थानीय शासक 891.2 ⇨  
स्थानीय शासन  
स्थानीय शासन 891.1 ⇨  
स्थानीय हीली  
आंचलिक प्रवृत्ति 453.14  
स्थानीय संगीत  
लोक संगीत 457 27  
स्थानीय संपादक  
संपादक सूची 445 16  
स्थानीय समय  
स्थानीय समय 50.7 ⇨  
स्थानीय स्वायत्तता  
सत्ता विकेन्द्रीयकरण 899.7  
स्थानुसार  
कोटि अनुसार 936.15  
स्थानेश्वर  
ग्राम देवता 772 27  
थानेदार 866.9  
शासक 890 5  
स्थान देवता 772.22  
स्थानीय शासक 891.2  
स्थाप  
परिवहन स्थल 1069.1  
स्थापक  
गतिहर्ता 1047.22  
प्रतिपादक 326 16  
स्थित कर्ता 1020 9  
स्थापत्य  
स्थापत्य 599.1 ⇨  
स्थापत्य कर्मी  
स्थपति 599.2  
स्थापत्य कला  
कला सूची 397.12  
स्थापत्य कृति  
स्थापत्य कृति 599.4 ⇨  
स्थापत्य वेद  
वास्तु वेद 740.39  
स्थापत्य शास्त्र  
वास्तु वेद 740.39  
स्थापन  
आधारण 1019 5  
निर्धारण 328.6  
निश्चलन 1038.3  
प्रमाणन 327.3  
प्रवर्तन 693.3  
विजकन 1016.1  
विधायन 878.21  
स्थितन 1020.3  
स्थापन करना  
स्थित करना 1020.7

स्थापन कर्ता  
स्थित कर्ता 1020.9  
स्थापना  
तर्क 325.1  
धर्म 735.1  
निदर्श. 328.3  
निर्णीत मत 324.16  
प्रविष्टायन 1094.4  
संस्थापना 693 1  
सिद्ध वाद 877.2  
स्थितन 1020 3  
स्थापना सत्य  
मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 598 9  
स्थापनीय  
आधारणीय 1019.18  
स्थापयिता  
ठलाई कर्मी 565 8  
प्रतिपादक 326.16  
संस्थापक 693 10  
स्थित कर्ता 1020 9  
स्थापिकी धर्म  
स्थापिकी धर्म 1077.43 ⇨  
स्थापित  
निर्धारित 328 14  
प्रतिपादित 326 14  
प्रमाणित 327 9  
प्रविष्टित 1094 25  
संस्थापित 693.9  
स्थित 1020 8  
स्थापित करना  
धरना 1019.10  
संस्थापित करना 693 5  
स्थित करना 1020.7  
स्थापितता  
स्थावरता 1038 1  
स्थापितव्य  
आधारणीय 1019.18  
स्थाप्य  
आधारणीय 1019 18  
प्रतिपाद्य 326.15  
स्थापिक  
धैर्यशील 394 15  
स्थापिता  
अनश्वरता 37 3  
अपरिवर्तनशीलता 533.2  
अयोध्यता 519.14  
अविचलता 500.5  
दीर्घ कालीनता 37.4  
दृढकायता 160.5  
दृढमतता 343.2  
धैर्य 394.6  
सुदृढता 160.7  
स्थायी वास 618.9  
स्थापित्व  
सुदृढता 160 7  
स्थायी  
अनश्वर 37.9  
अपरिवर्तनशील 533.10



गीतः स्थायी 451.23  
दीर्घ कालीन 37.10  
दीर्घशील 394.15  
शाश्वत 37.7  
संगीत वर्ण सूची 459.24  
स्थावर 1038.7  
स्थित 1020.8  
स्थायी पता  
स्थायी स्थान 618.14  
स्थायी भाव  
स्थायी भाव 358.3 ⇨  
स्थायी भाव सूची  
स्थायी भाव सूची 358.4 ⇨  
स्थायी वास  
स्थायी वास 618.9 ⇨  
स्थायी वासी  
स्थायी वासी 618.33 ⇨  
स्थायी संबंध  
अटूट संबंध 715.3  
स्थायी स्तंभ  
स्थायी स्तंभ 447.16 ⇨  
स्थायी स्थान  
स्थायी स्थान 618.14 ⇨  
स्थाल  
थाल 685.1  
थाला 551.23  
स्थाली  
कूड 679.23  
थाली 685.2  
स्थावर  
दीर्घ कालीन 37.10  
पर्यत 16.3  
स्थावर 1038.7 ⇨  
स्थित 1020.8  
स्थावरता  
सुदृढ़ता 160.7  
स्थावरता 1038.1 ⇨  
स्थावर न होना  
जंगम होना 1037.12  
स्थावर संपत्ति  
अचल संपत्ति 624.8  
भूसंपत्ति 624.11  
स्थावर होना  
स्थावर होना 1038.4 ⇨  
स्थाविर  
स्थावर 1038.7  
स्थाव्यु  
सघन 81.15  
स्थाव्युता  
सघन अवस्था 79.8  
स्थाव्यु पदार्थ  
सघन पदार्थ 79.9  
स्थाव्यु  
अपरिवर्तनशील 533.10  
आसीन 1028.10  
दीर्घ कालीन 37.10  
वृक्ष 111.18  
स्थावर 1038.7

स्थित 1020.8  
स्थाव्युकरण  
पिंडन 81.7  
स्थित  
अध्यवसायी 489.1J  
अचल 500.15  
आसीन 1028.10  
उपस्थित 1021.9  
ध्यानमग्न 331.11  
निर्धारित 328.14  
सुदृढ़ 160.15  
स्थावर 1038.7  
स्थित 1020.8 ⇨  
स्थित करना  
स्थित करना 1020.7 ⇨  
स्थित कर्ता  
स्थित कर्ता 1020.9 ⇨  
स्थिततः  
स्थानस्थितः 1020.13  
स्थितता  
अपरिवर्तनशीलता 533.2  
स्थावरता 1038.1  
स्थितता 1020.2 ⇨  
स्थितन  
स्थितन 1020.3 ⇨  
स्थितप्रज्ञ  
अनासक्त 366.5  
दीर्घशील 394.15  
स्थितप्रज्ञ 761.30 ⇨  
स्थिरचित्त 355.6  
स्थितप्रज्ञता  
स्थितप्रज्ञता 761.10 ⇨  
स्थितबुद्धि वस्तु  
बोधिसत्त्व सूची 793.16  
स्थित होना  
स्थित होना 1020.6 ⇨  
स्थिति  
अपरिवर्तनशीलता 533.2  
कार्य विधि 514.1  
ग्रहदशा 261.21  
पदवी 652.1  
परिस्थिति 69.5  
भाग्य 260.14  
योग आसन 756.18  
स्थानक 464.26  
स्थिति 1020.1 ⇨  
स्थितिगत  
संयोगपूर्ण 69.9  
स्थितिज ऊर्जा  
स्थितिज ऊर्जा 101.3 ⇨  
स्थितिजन्य  
संयोगपूर्ण 69.9  
स्थिति परिवर्तन  
पलटाव 1027.6  
स्थिति क्वलना  
पलटना 1027.14  
स्थिति में  
परिस्थिति में 69.14

स्थितिविवा  
संयोगवशा 69.12  
स्थितिवशाता  
संयोग 69.1  
स्थिर  
अचंचल 860.25  
अनश्वर 37.9  
अनातुर 497.5  
अनुबंधित 339.32  
अप्रयत्नशील 490.9  
अप्रवाहित (जल) 244.40  
आवेशहीन 372.12  
क्रोधहीन 372.13  
गतिहीन 1042.12  
तय (सौदा) 658.14  
दुबिधाहीन 500.13  
दृढमतपूर्ण 343.13  
दीर्घशील 394.15  
नियत 88.16  
निरुद्धिग्न 378.9  
निर्धारित 328.14  
निरचल 1038.8  
प्रवाहहीन 1041.9  
शांत 372.9  
सुदृढ़ 160.15  
स्थिरचित्त 355.6  
स्थिर अभिनय  
करण 464.21  
स्थिरकर्मा  
अध्यवसायी 489.10  
स्थिरगति  
शानि ग्रह 7.8  
स्थिरधि-1  
दीर्घशील 394.15  
निरुद्धिग्न 378.9  
स्थितप्रज्ञ 761.30  
स्थिरचित्त 355.6 ⇨  
स्थिरचित्त (दे.)  
शांत स्वभाव 837.14  
स्थिरचित्तता  
निरुद्धिग्नता 378.3  
स्थितप्रज्ञता 761.10  
स्थिरचित्तता 355.2 ⇨  
स्थिरचित्तता (दे.)  
शांत स्वभाव 837.5  
स्थिरचित्त न होना  
स्थिरचित्त न होना 355.5 ⇨  
स्थिरचित्त होना  
स्थिरचित्त होना 355.4 ⇨  
स्थिर चित्र  
स्थिर चित्र 405.3 ⇨  
स्थिरच्छाया  
छाया वृक्ष 111.19  
स्थिर जल  
प्रवाहहीन जल 21.12  
स्थिरजीवी  
दीर्घायु 229.19

स्थिरण  
निर्धारण 328.6  
निरचलन 1038.3  
स्थिरता  
अनश्वरता 37.3  
अपरिवर्तनशीलता 533.2  
अयोध्यता 519.14  
अचलता 500.5  
आवेशहीनता 372.3  
गतिहीनता 1042.3  
दीर्घ कालीनता 37.4  
दीर्घायुता 229.7  
दृढकायता 160.5  
दृढमतता 343.2  
दीर्घ 394.6  
नियतता 68.8  
निरुद्धिग्नता 378.3  
निरचलता 1038.2  
प्रतिरोध 915.1  
सुदृढ़ता 160.7  
स्थायी वास 618.9  
स्थिरचित्तता 355.2  
स्थिरता अभाव  
अस्थिरता 1037.6  
स्थिरचंद्र  
वराह अवतार 769.34  
स्थिर दान  
नीवी दान 641.13  
स्थिर वृष्टि  
ताक 284.14  
स्थिरधी  
निरुद्धिग्न 378.9  
स्थितप्रज्ञ 761.30  
स्थिरचित्त 355.6  
स्थिर विधि दान  
नीवी दान 641.13  
स्थिरपद  
आमूलित 117.21  
स्थिरप्रतिज्ञ  
दृढप्रतिज्ञा 339.46  
स्थिर क्रोटो  
स्थिर चित्र 405.3  
स्थिरबुद्धि  
दीर्घशील 394.15  
स्थितप्रज्ञ 761.30  
स्थिरमनस्क  
निरुद्धिग्न 378.9  
स्थिरमनस्कता  
स्थिरचित्तता 355.2  
स्थिरमना  
दीर्घशील 394.15  
स्थितप्रज्ञ 761.30  
स्थिरयोगि  
सदाबहार वनस्पति 111.5  
स्थिरवीचन  
विद्याधर 779.15  
स्थिर रहना  
निरचल रहना 1038.6

## स्थिर लक्ष्य

**स्थिर लक्ष्य**  
अघल लक्ष्य 931.3

**स्थिरलोकन**  
ताकने वाला 284 53

**स्थिर सार**  
सागीन 13.25

**स्थिर होना**  
निरघल होना 1038.5

**स्थिरा**  
पृथ्वी 9 1

**स्थिरात्मा**  
दीर्घशील 394.15  
स्थितप्रज्ञ 761 30

**स्थिरायु**  
दीर्घायु 229 19

**स्थिरीकरण**  
निर्धारण 328.6  
निरघलन 1038.3  
विजडन 1016 1

**स्थुण**  
टेक धूनी 596.4  
तना 114 7  
नौका बंधन स्थान 1073.19  
मस्तूल 1073.11  
स्तंभ 607 7

**स्थुणा**  
टेक घडूतरा 596 7  
लीवर टेक 1062.4  
लौह मूर्ति 406 14

**स्थुणाराज**  
आधार स्तंभ 607 8

**स्थूल**  
इहलीकिक 258.13  
जड 78.23  
जड पदार्थ 78 5  
डेर 886 6  
तत्त्वीय 78 24  
त्रिआयामीय 964.24  
प्रगाड 81 14  
मोटा [मोटी] 965.12  
सघन 81 15

**स्थूल अर्थ**  
स्थूल अर्थ 426.11 ⇨

**स्थूलकाय**  
स्थूलकाय 154.29 ⇨

**स्थूलकायता**  
स्थूलकायता 154.10 ⇨

**स्थूलतः**  
स्थूलतः 426.43 ⇨

**स्थूलता**  
त्रिआयामता 964.11  
मोटाई 965.8  
मोटाई माप 958 13

**स्थूलता माप**  
मोटाई माप 958 13

**स्थूलत्वहीनता**  
दो आयाम 964.6

**स्थूलपाद**  
हाथी 127 38

**स्थूल कल**  
कच्चा जोड़ 954 4

**स्थूलबुद्धि**  
वफ़ादी 302 9

**स्थूल मान**  
कच्चा जोड़ 954.4

**स्थूल योजना**  
परिकल्प 520.6

**स्थूल रूप से**  
स्थूलतः 426.43

**स्थूल शरीर**  
शरीर 139 1

**स्थूलानां**  
स्थूलकाय 154.29

**स्थूलोदर**  
उन्नतोदर 158.29  
उन्नतोदर 988 9

**स्थैतिक ऊर्जा**  
स्थितिज ऊर्जा 101.3

**स्थैर्य**  
दीर्घ 394.6  
निरघलता 1038.2  
सघनता 81.2

**स्थोरा**  
प्रेषित सामान 666 4

**स्थौर**  
लाद 1061 5  
स्थावरता 1038.1

**स्थौरा**  
स्टोक 886.9

**स्थौरी**  
भार पर 127.5

**स्थैर्य**  
सघनता 1004 5

**स्नात**  
स्नात 221.25 ⇨  
स्नानाभिषेक 221.27

**स्नातक**  
वेदज्ञ 761.29  
स्नात 221.25  
स्नातक उपाधि 322.28

**स्नातक उपाधि**  
स्नातक उपाधि 322.28 ⇨

**स्नातकोत्तर**  
निष्णात उपाधि 322 29  
स्नातकोत्तर उपाधि  
निष्णात उपाधि 322.29

**स्नान**  
तीर्थ स्नान 221 10  
वर्जित दूरय सूची 463.28  
बोडशोपघार सूची 750 4  
सोलह सिंगार सूची 222.3  
स्नान 221.9 ⇨  
स्नानाभिषेक 221.13

**स्नानकक्ष**  
स्नानागार 221.17

**स्नान करना**  
स्नान करना 221.22 ⇨

**स्नान कर्ता**  
स्नान कर्ता 221.26 ⇨

**स्नानघर**  
स्नानागार 221 17

**स्नानघाट**  
स्नानघाट 221.21 ⇨

**स्नानघाटः पैड़ी**  
स्नानघाटः पैड़ी 613.5 ⇨

**स्नान फुहारा**  
स्नान फुहारा 221.18 ⇨  
स्नान फुहारा 1032 11 ⇨

**स्नान फुहारा (दे.)**  
स्नान फुहारा 1032 11

**स्नानः साबुन**  
स्नान साबुन 220.30 ⇨

**स्नान छूट**  
स्निग्ग कास्ट्यूम 483.8

**स्नानागार**  
स्नानागार 221.17 ⇨

**स्नानाभिषिक्त**  
स्नानाभिषिक्त 221.27 ⇨

**स्नानाभिषेक**  
स्नानाभिषेक 221.13 ⇨

**स्नानाभिषेक करना**  
स्नानाभिषेक करना 221.23 ⇨

**स्नानार्थी**  
स्नान कर्ता 221.26

**स्नानालय**  
स्नानागार 221 17

**स्नानी**  
स्नान कर्ता 221 26

**स्नायु**  
स्नायु 131.13 ⇨

**स्नायु बंध**  
धनुष प्रत्यंघा 926.15

**स्नाव**  
शिरा 131.12  
स्नायु 131 13

**स्निग्ध**  
आर्द्र 88.27  
कोमल स्वभावी 837.11  
कोमलहृदय 834 15  
धिकना [धिकनी] 269.22  
धिपधिपा [धिपधिपी] 1012.13  
प्रिय 369.7  
स्निग्ध 197.16 ⇨  
स्निग्ध स्वभावी 837.13

**स्निग्ध आहार**  
स्निग्ध आहार 197.6 ⇨

**स्निग्धता**  
धिकनापन 269.7  
नम्र व्यवहार 830.3  
स्निग्ध स्वभाव 837.4

**स्निग्ध वारु**  
चीड़ 13.7  
देवदारु 13.10

**स्निग्ध भाषण**  
स्निग्ध भाषण 431.4 ⇨

**स्निग्ध भाषण करना**  
स्निग्ध भाषण करना 431.6 ⇨

**स्निग्धभाषी**  
स्निग्धभाषी 431.10 ⇨

**स्निग्धव्य**  
स्निग्धव्य 196.1 ⇨

**स्निग्धव्य सूची**  
स्निग्धव्य सूची 196.2 ⇨

**स्निग्ध स्वभाव**  
स्निग्ध स्वभाव 837.4 ⇨

**स्निग्ध स्वभावयुक्त**  
स्निग्ध स्वभावी 837 13

**स्निग्ध स्वभावी**  
स्निग्ध स्वभावी 837.13 ⇨

**स्नीह**  
कोमल स्वभावी 837 11  
स्निग्ध स्वभावी 837.13

**सु**  
स्नायु 131.13

**सुत**  
टपका [टपकी] 1032.32

**सुनुषा**  
पुत्र वधु 724 24

**सूकर (अँ)**  
बिलियर्ड 478.3  
स्नेक बोट (केरल)  
घावन तरणी 1072.29

**स्नेकस्किन (अँ)**  
सर्प चर्म 582 10

**स्नेह**  
तेल 196 10  
दयालुता 834.4  
प्रेम 368.1  
लाड़ 721 3  
वात्सल्य 721.1  
शरीरव्य 129.6  
स्निग्धव्य 196.1  
स्निग्ध स्वभाव 837.4  
स्नेह 368.10 ⇨

**स्नेह करना**  
स्नेह करना 368.16 ⇨

**स्नेहगर्भ**  
तिल 196.17

**स्नेहघट**  
तेल घड़ा 679.9

**स्नेह नमन**  
नमन 1060.4

**स्नेह पणा**  
स्नेहपूर्ण 368.23

**स्नेहपात्र**  
प्रेमपात्र 369.4  
स्नेहपात्र 368.11 ⇨

**स्नेहपात्रा**  
प्रेमपात्रा 369.5

**स्नेहपूर्ण**  
लाड़पूर्ण 721.14

वात्सल्यपूर्ण 721 12  
स्नेहपूर्ण 368.23 ⇨  
स्नेह बीज  
धिराजी 281 15  
स्नेह भांड  
तेल घडा 679 9  
स्नेह भाजन  
स्नेहपात्र 368 11  
स्नेहमय  
स्नेहपूर्ण 368 23  
स्नेह मीन  
कोड 125 4  
स्नेहल  
लाङ्गपूर्ण 721 14  
स्नेहवर  
वसा 132 4  
स्नेहसार  
मज्जा 132 3  
स्नेहहीन  
कठोरहृदय 835 11  
वसाहीन 132 23  
स्नेहहीनता  
निर्दयता 835 2  
स्नेहालिंग कर्ता  
आलिंगन कर्ता 237 18  
स्नेहित  
प्रेमपात्र 369 4  
स्निग्ध 197 16  
स्नेहिता  
प्रेमपात्रा 369 5  
स्नेहिल  
प्रेमपूर्ण 368 17  
लाङ्गपूर्ण 721 14  
स्नेहपूर्ण 368 23  
स्नेही  
दयालु 834 12  
पुरुष मित्र 705 2  
प्रेमी 368 2  
वात्सल्यपूर्ण 721 12  
स्निग्ध स्वभावी 837 13  
स्नेही 368.24 ⇨  
स्नेक्स (अं)  
उपाहार 200 1  
स्नेप शीट (अं)  
शीघ्र चित्र 405 4  
स्नो (अं)  
वर्षा हिम 54 14  
हिम 90 1  
स्नोब (अं)  
प्रतिष्ठा भक्त 849 16  
सुरुचिमन्यक 400 21  
स्नोबरी (अं)  
सुरुचिमन्यता 400 7  
स्नीकल (अं)  
श्वास नली 483.17  
स्पर्ज  
स्पर्ज 1002.11 ⇨

स्पर्ज (अं)  
स्पर्ज 1002 11  
स्पर्द  
स्पर्द 1039 1 ⇨  
स्पर्दन  
प्रयत्न 489 1  
सघलन 1037 4  
स्पर्दन 1039.2 ⇨  
स्फुरण 1039 6  
स्वर स्पर्दन 465 15  
हृदय स्पर्दन 1039 4  
स्पर्दनशील  
जीवित 246 13  
स्पर्दित 1039 18  
स्पर्दनहीनता  
निश्चलता 1038 2  
स्पर्दन हीना  
स्पर्दित होना 1039 14  
स्पर्दित  
सघलित 1037 20  
स्पर्दित 1039 18 ⇨  
स्पर्दित होना  
स्पर्दित होना 1039 14 ⇨  
स्पर्दी  
जीवित 246 13  
सघल 1037 19  
स्पर्दोलिका  
झूला गति 1035 3  
स्पर्द्धा  
प्रतिद्वंद्विता 707 1  
स्पर्धनीय  
इच्छनीय 359 20  
स्पर्धा  
ईर्ष्या 709 1  
प्रतिद्वंद्विता 707 1  
प्रतियोगिता 707 2  
वैमनस्य 706 10  
स्पर्धी  
ईर्ष्यालु 709 6  
प्रतिद्वंद्वी 707 8  
प्रतियोगी 707 9  
स्पर्शा  
प्रभाय 511 1  
स्पर्श 269.2 ⇨  
स्पर्शा (त्वचा)  
इन्द्रियार्थ सूची 268 10  
स्पर्शा (दे.)  
स्पर्शा अनुभूति 269 1  
स्पर्शा अनुभूति  
स्पर्शा अनुभूति 269.1 ⇨  
स्पर्शाक  
स्पर्शा कर्ता 269 15  
स्पर्शा करना  
स्पर्शा करना 269.9 ⇨  
स्पर्शा कर्ता  
स्पर्शा कर्ता 269 15 ⇨  
स्पर्शा कोण  
स्पर्शा रेखा 968 26

स्पर्शाज रोग  
सक्रामक रोग 163.4  
स्पर्शज्या  
स्पर्शा रेखा 968 26  
स्पर्शान  
वायु 85 1  
स्पर्शानक  
त्वचा 134 1  
स्पर्शा प्रभव  
स्पर्शा 95 4  
स्पर्शा मणि  
पारस मणि 96.19  
स्पर्शा रेखा  
स्पर्शा रेखा 968 26 ⇨  
स्पर्शा संचारी  
सक्रामक 169 14  
स्पर्शानंदा  
अप्सरा 782 2  
स्पर्शानुभूति  
स्पर्शा अनुभूति 269 1  
स्पर्शानुभूतियुक्त  
स्पर्शानुभूतियुक्त 269 12 ⇨  
स्पर्शानुभूतिहीन  
स्पर्शानुभूतिहीन 269 13 ⇨  
स्पर्शित  
स्पर्शित 269 14 ⇨  
स्पर्शिता  
स्पर्शा कर्ता 269 15  
स्पर्शा  
सटा [सटी] 31 8  
स्पर्शा कर्ता 269 15  
स्पर्शाद्विय  
त्वचा 134 1  
स्पर्शा अनुभूति 269 1  
स्पर्शाद्विय (त्वचा)  
ज्ञानद्विय सूची 268 6  
स्पर्ष्ट  
अनावृत् 822 29  
अभिव्यक्त 428 17  
कथित 430 16  
परिभाषित 317 17  
प्रत्यक्ष स्पर्ष्ट 284 50  
बोध्य 518 17  
भ्रमहीन 340 21  
सुलिखित 412 48  
स्पर्ष्ट 822 20 ⇨  
स्पर्ष्टार्थी 426 33  
स्पर्ष्टीकृत 876 30  
स्पर्ष्ट अर्थ  
स्पर्ष्ट अर्थ 426.14 ⇨  
स्पर्ष्ट अस्वीकृति  
स्पर्ष्ट अस्वीकृति 338.2 ⇨  
स्पर्ष्ट उच्चारण  
शुद्ध उच्चारण 411.4  
स्पर्ष्ट उत्तर  
स्पर्ष्ट उत्तर 334.4 ⇨  
स्पर्ष्ट कथन  
स्पर्ष्ट कथन 430.3 ⇨

स्पर्ष्ट कथन करना  
स्पर्ष्ट कथन करना 430 12 ⇨  
स्पर्ष्ट करना  
स्पर्ष्टीकरण देना 876 24  
स्पर्ष्टतः  
स्पर्ष्टतः 822.32 ⇨  
स्पर्ष्टता  
सुदृश्यता 282 12  
स्पर्ष्ट कथन 430 3  
स्पर्ष्टता 822.1 ⇨  
स्पर्ष्ट न रहना  
अस्पर्ष्ट होना 823.9  
स्पर्ष्ट न होना  
अस्पर्ष्ट होना 823 9  
स्पर्ष्ट बात  
स्पर्ष्टोक्ति 430 4  
स्पर्ष्टभाषिता  
स्पर्ष्ट कथन 430 3  
स्पर्ष्टभाषी  
स्पर्ष्ट वक्ता 430 19  
स्पर्ष्ट लिखित  
सुलिखित 412.46  
स्पर्ष्ट लेख  
सुलेख 412 10  
स्पर्ष्ट लेखन करना  
सुलेखन करना 412.38  
स्पर्ष्ट वक्ता  
स्पर्ष्ट वक्ता 430 19 ⇨  
स्पर्ष्टवादिता  
स्पर्ष्ट कथन 430 3  
स्पर्ष्ट होना  
स्पर्ष्ट होना 822 13 ⇨  
स्पर्ष्टार्थक  
स्पर्ष्टार्थी 426.33  
स्पर्ष्टार्थी  
स्पर्ष्टार्थी 426.33 ⇨  
स्पर्ष्टित  
स्पर्ष्टीकृत 876 30  
स्पर्ष्टीकरण  
प्रतिवाद 875 11  
व्याख्यायन 427 16  
स्पर्ष्टीकरण 876.11 ⇨  
स्पर्ष्टीकरण करना  
स्पर्ष्टीकरण देना 876.24  
स्पर्ष्टीकरण देना  
स्पर्ष्टीकरण देना 876.24 ⇨  
स्पर्ष्टीकरण मौग  
स्पर्ष्टीकरण मौग 875.19 ⇨  
स्पर्ष्टीकृत  
स्पर्ष्टीकृत 876.30 ⇨  
स्पर्ष्टोक्ति  
स्पर्ष्टोक्ति 430.4 ⇨  
स्पाइरल (अं)  
अनुषक 973.5  
उष्णक 973.11  
स्पाइरल सर्कल (अं)  
अनुषक 973.5

## स्पाइरिलिटी (अं)

स्पाइरिलिटी (अं)

अनुष्णकिलता 973.4

स्पाई (अं)

गुप्ताक्षर 866.12

स्पाईक

स्पाईक 101.11 ⇨

स्पाईक (अं)

स्पाईक 101.11

स्पाईक प्लग

स्पाईक प्लग 1078.25 ⇨

स्पाईक प्लग (अं)

स्पाईक प्लग 1078.25

स्पीडल (अं)

अक्ष दंड 1077.12

स्पीकर (अं)

माइक्रोफोन 300.8

सदन अध्यक्ष 889.9

स्पीच (अं)

भाषण 430.8

स्पीड (अं)

गति वेग माप 958.25

वेग 1042.9

स्वर लय 465.12

स्पीड पोस्ट (अं)

कुरियर व्यवस्था 444.19

स्पीड ब्रेकर (अं)

वेग अवरोधक 1043.4

स्पीडोमीटर (अं)

गति मापी 958.27

स्पूनिक (अं)

कृत्रिम उपग्रह 1075.12

स्पून (अं)

घम्वच 681.16

स्पूल (अं)

आडियो कैसेट 300.21

स्पूट

स्फुरित 269.14

स्पूडणीय

इच्छनीय 359.20

स्पूडा

इच्छा 359.1

लालसा 359.5

स्पूहित

इच्छित 359.19

लालसित 359.28

स्पूडी

आतुर 496.11

इच्छुक 359.21

लालसी 359.29

स्पूड्य

इच्छनीय 359.20

स्पूडल (अं)

विशिष्ट 312.15

स्पूडलिस्ट (अं)

धिकिस्तीय विशेषज्ञ 173.2

स्पूड (अं)

अंतरिक्ष 2.3

स्पूडमैन (अं)

अंतरिक्ष यात्री 1087.24

स्पूडवाक (अं)

यानेतर कार्य 1081.43

स्पूड शटल

स्पूड शटल 1075.11 ⇨

स्पूड शटल (अं)

स्पूड शटल 1075.11

स्पूडशिप (अं)

अंतरिक्ष यान 1075.6

स्पूड स्टेशन (अं)

अंतरिक्ष पत्तन 1069.22

स्पूडकेकल (अं)

भय दृश्यता 402.2

स्पूडकेक्यूलर (अं)

भयदृश्यतापूर्ण 402.4

स्पूडकून (अं)

वर्णाली 289.7

स्पूडकून: रंग

वर्णाली रंग 289.8

स्पूडनर

स्पूडनर 559.38 ⇨

स्पूडनर (अं)

स्पूडनर 559.38

स्पूडक (अं)

अरा 1077.7

अर्थ व्यास 972.14

स्पूड (अं)

खेल 475.1

स्पूडवीअर (अं)

खेल परिधान 583.15

स्पूडर्स कार (अं)

नेस कार 1071.56

स्पूडर्समैन [स्पूडर्सडुमैन]

खिलाडी 475.2

स्पूडर्स वीअर (अं)

खेल परिधान 583.15

स्पूडर्स सूट (अं)

स्पूडर्स सूट 583.20

स्पूडर्स सूट

स्पूडर्स सूट 583.20 ⇨

स्पूडर्स (अं)

प्रायोजक 655.21

स्पूडर्स करना

प्रायोजित करना 655.14

स्पूडर्सर (अं)

प्रायोजक 655.21

स्पूडर्सरिंग (अं)

प्रायोजन 655.4

स्पूडर्सर्ड (अं)

प्रायोजित 655.20

स्पूडर

स्पर्श कर्ता 269.15

स्प्रिंग

स्प्रिंग 1050.19 ⇨

स्प्रिंग (अं)

कमानी 1076.24

स्प्रिंग 1050.19

स्प्रिंग बैलेंस

स्प्रिंग बैलेंस 962.18 ⇨

स्प्रिंग बैलेंस (अं)

स्प्रिंग बैलेंस 962.18

स्प्रिंगी (अं)

गदीला [गदीली] 1050.36

स्प्रिंगीनेस (अं)

गदीलापन 1050.15

प्रतिनम्यता 1050.17

स्प्रिंट (अं)

एक घाव 484.2

स्प्रेअर

स्प्रेअर 1032.13 ⇨

स्प्रेअर (अं)

स्प्रेअर 1032.13

स्प्रीकेट

स्प्रीकेट 405.23 ⇨

स्प्रीकेट (अं)

गरारी. दौता 1077.38

स्प्रीकेट 405.23

स्प्लिट

स्प्लिट 174.10 ⇨

स्प्लिट (अं)

स्प्लिट 174.10

स्फटिक

केलास 79.11

स्फटिक 283.20 ⇨

स्फटिक अवस्था

केलास अवस्था 79.10

स्फटिकता

केलास अवस्था 79.10

स्फटिकप्रभ

पारदर्शी 282.23

स्फटिक मणि

स्फटिक 283.20

स्फटिका

कपूर 274.14

फिटकरी 281.25

स्फटिकिकरण

केलासन 81.4

स्फटिकोपम

चंद्रकांत मणि 96.17

स्फार

उच्च स्वरीय 299.22

विस्फार 119.3

विस्फारित 119.12

स्फारण

विस्फारण 119.5

स्फारित

प्रसारित 979.17

फुला [फुली] 988.13

विस्फारित 119.12

स्फीत

फुला [फुली] 988.13

मोटा [मोटी] 985.12

स्फीति

फुलाव 988.4

वृद्धि 979.4

स्फुट

अभिव्यक्त 428.17

सुर्दा 666.14

प्रतिपादित 326.14

विकसित 534.14

विशद 822.21

स्पष्ट 822.20

स्फुटता

विशदता 822.2

स्फुटन

अंकुरण 117.1

प्रस्फुटन 119.1

रंग प्रस्फुटन 291.3

विशदन 822.3

स्फुटफल

घनफल 955.7

त्रिभुज क्षेत्रफल 966.2

स्फुटित

अंकुरित 117.18

प्रस्फुटित 119.10

विशद 822.21

स्पष्टीकृत 876.30

स्फुटितता

प्रस्फुटितता 119.2

स्फुटी

फूट 190.25

स्फुटीकरण

उज्ज्वलन 218.10

स्फुरक (प्र)

स्प्रेअर 1032.13

स्फुरण

अंग स्फुरण 1039.7

ऊर्जायन 101.6

पुष्पन 118.1

विस्फुरण 119.4

स्फुरण 1039.6 ⇨

स्फूर्ति 491.2

स्फुरण यंत्र

फुहारा 1032.10

स्फुरणशील

स्फुरणशील 1039.19 ⇨

स्फुरण होना

स्फुरण होना 1039.15 ⇨

स्फुरित

ऊर्जायित 101.14

स्फुरित होना

स्फुरण होना 1039.15

स्फुलम

पुष्पन 118.1

विस्फुरण 119.4

स्फुलिंग

धिगारी 106.11

स्पार्क 101.11

स्फुलिंगन

धिगारण 107.2

स्फुलित

घोर ध्वनित 294.29

स्फूर्त  
स्फूर्त 491.13 ⇨  
स्फूर्ति  
इड 352.4  
सहसा कल्पना 308.3  
स्फुरण 1039.6  
स्फूर्ति 491.2 ⇨  
स्फूर्ति आना  
स्फूर्ति आना 491.6 ⇨  
स्फूर्ति न होना  
स्फूर्ति न होना 492.9 ⇨  
स्फूर्तिपूर्वक  
स्फूर्तिपूर्वक 491.18 ⇨  
स्फूर्तिप्रद  
स्फूर्तिप्रद 491.14 ⇨  
स्फूर्तिमान  
स्फटित 1039.18  
स्फुरणशील 1039.19  
स्फूर्त 491.13  
स्फूर्तियुक्त  
स्फूर्त 491.13  
स्फूर्तिहीन  
स्फूर्तिहीन 492.14 ⇨  
स्फूर्तिहीनता  
स्फूर्तिहीनता 492.3 ⇨  
स्फेरीड्ड (अँ)  
वर्तुलप्राय पिंड 976.6  
स्फोट  
फोड 544.7  
फोडा 167.2  
विस्फोट 544.8  
स्फोटक  
अभिव्यक्ति कर्ता 428.18  
उत्तेजनशील 371.11  
बारुद 927.20  
स्फोट खनन  
विस्फोट खनन 1018.5  
स्फोटिक  
विस्फोट खनन 1018.5  
स्फोटित  
फोडा [फोडी] 544.22  
स्मालर (अँ)  
तस्कर 864.38  
स्मालिंग (अँ)  
तस्कर 864.37  
स्वट (अँ)  
करखा 549.8  
स्वय  
आश्चर्य 379.1  
मुस्कराइट 384.5  
हास 384.1  
स्वयी  
मुस्कराता [मुस्कराती] 384.17  
स्वर  
कामदेव 773.12  
प्रेम 368.1  
स्मृति 356.1

स्वर रूप  
भग 152.13  
स्वरण  
नवधा भक्ति सूची 752.6  
स्वरण 356.2 ⇨  
स्वरण करना  
जपना 749.39  
स्वरण करना 356.12 ⇨  
स्वरण कराना  
स्वरण कराना 356.15 ⇨  
स्वरण जप  
जप 749.2  
स्वरण पत्र  
स्वरण पत्र 356.9  
स्वरणवश  
संदर्भवश 437.17  
स्वरण शक्ति  
स्मृति 356.1  
स्वरण शक्तिहीन  
स्मृतिहीन 357.8  
स्वरणा  
स्मृति 356.1  
स्वरणी  
जपमाला 749.7  
स्वरणीय  
अविस्मरणीय 356.20  
संग्रहणीय 669.20  
स्वरदहन  
शिव 767.1  
स्वर बाण  
कामबाण 773.18  
स्वर बधु  
रति 774.78  
स्वर बल्लभ  
अनिरुद्ध 771.34  
स्वर शर  
कामबाण 773.18  
स्वरसख  
वसंत काल 52.1  
स्वरांकुरा  
पुरुष जननेंद्रिय 152.10  
स्वरोन्माद  
कामोन्माद 353.15  
स्वर्तव्य  
अविस्मरणीय 356.20  
स्वर्ता  
धर्म ग्रंथज्ञ 738.2  
धर्म शिक्षक 742.21  
धर्माचार्य 790.2  
स्वर्ध  
अविस्मरणीय 356.20  
स्मारक  
स्मारक 77.12 ⇨  
स्मारक 255.1 ⇨  
स्मारण कर्ता 356.27  
स्मारक (वे.)  
स्मारक 77.12

स्मारक: प्रकार सूची  
स्मारक: प्रकार सूची 77.13 ⇨  
स्मारक स्तंभ  
स्मारक स्तंभ 255.13 ⇨  
स्मारण  
स्मारण 356.8 ⇨  
स्मारण कर्ता  
स्मारण कर्ता 356.27 ⇨  
स्मारण पत्र  
स्मारण पत्र 356.9 ⇨  
स्मारिका  
कार्यक्रम सूची 993.2  
शौर्यर 442.9  
स्मारी  
स्मारण कर्ता 356.27  
स्मार्त  
पारंपरिक 795.13  
पुनः स्मृत 356.26  
स्मृत 356.17  
स्मार्तः पीठ देवता  
पंचदेव 772.32  
स्मार्त मत  
स्मार्त संप्रदाय 737.62  
स्मार्त संप्रदाय  
स्मार्त संप्रदाय 737.62 ⇨  
स्मालस्काल ईडस्ट्री (अँ)  
लघु उद्योग 557.7  
स्मित  
अम्सान 119.14  
मुस्कराता [मुस्कराती] 384.17  
मुस्कराइट 384.5  
विशद 822.21  
स्मितपूर्ण  
मुस्कराता [मुस्कराती] 384.17  
स्मृत  
स्मृत 356.17 ⇨  
स्मृत करना  
स्वरण करना 356.12  
स्मृत वृषय  
प्रलेश बैक 463.31  
स्मृत न होना  
स्मृत न होना 357.6 ⇨  
स्मृति  
अठारह: उपमान सूची 948.53  
ऋषि स्त्री सूची 789.25  
परंपरा 795.1  
प्रलेश बैक 463.31  
विधि संहिता 878.6  
संस्मरण 356.7  
स्मृति 356.1 ⇨  
स्मृति ग्रंथ 740.55  
स्मृतिधरता 356.3  
हिंदू धर्मग्रंथ 740.9  
हिंदू विधि 878.8  
स्मृति कारी  
स्मारण कर्ता 356.27  
स्मृति वर्धक 356.18

स्मृति ग्रंथ  
स्मृति ग्रंथ 740.55 ⇨  
स्मृति ग्रंथ: अनुयायी मत  
स्मार्त संप्रदाय 737.62  
स्मृति तंत्र  
धर्म ग्रंथ 738.1  
स्मृति ग्रंथ 740.55  
स्मृतिधर  
स्मृतिधर 356.22 ⇨  
स्मृतिधरता  
स्मृतिधरता 356.3 ⇨  
स्मृतिनट  
स्मृतिनट 357.10 ⇨  
स्मृति नाश  
स्मृति नाश 357.3 ⇨  
स्मृति नाशक  
स्मृति नाशक 357.11 ⇨  
स्मृति पाठक  
विधिज्ञ 878.13  
स्मृति पुराण  
धर्म ग्रंथ 738.1  
स्मृति पुस्तिका  
शौर्यर 442.9  
स्मृति प्रवाह  
स्मृति प्रवाह 356.13 ⇨  
स्मृति प्रेश  
स्मृति नाश 357.3  
स्मृतिप्रद  
स्मृतिनट 357.10  
स्मृति शक्ति  
स्मारक 255.1  
स्मृति ज्ञान  
स्मृति लाभ 356.10 ⇨  
स्मृति लोप  
विस्मृति 357.4  
स्मृति वर्धक  
स्मृति वर्धक 356.18 ⇨  
स्मृतिविद  
धर्म ग्रंथज्ञ 738.2  
स्मृति विभ्रम  
स्मृति विभ्रम 357.2 ⇨  
स्मृति विरुद्ध  
शास्त्र विरुद्ध 318.8  
स्मृति शास्त्र  
धर्म ग्रंथ 738.1  
स्मृति ग्रंथ 740.55  
स्मृतिशेष  
अविस्मृत 356.19  
मृत 249.23  
स्मृतिहर  
स्मृति नाशक 357.11  
स्मृति शरक  
स्मृति नाशक 357.11  
स्मृति शरी  
स्मृति नाशक 357.11  
स्मृतिहीन  
स्मृतिहीन 357.8 ⇨

## स्मृतिहीनता

### स्मृतिहीनता

अस्मृति 357 1

### स्मेर

अस्नान 119 14

मुस्कराता [मुस्कराती] 384 17

### स्नेक (अँ)

मधुआरी नाव 1072 30

### स्नोक करना

धूम्रपान करना 213.29

### स्नोकिंग (अँ)

धूम्रपान 213.14

### स्यंद

आर्द्रता 88 16

वेग 1042 9

संवेग 1042 10

### स्यंदक

द्रायक 80 7

### स्यंदन

द्रयण 80 2

दुतगामी [दुतगामिनी] 1044 7

यान 1070.1

रथ 1071.46

वायु 85 1

आव 1032 1

### स्यंदनशील

आवशील 1032 27

### स्यंदी

दुतगामी [दुतगामिनी] 1044.7

प्रवाहशील 1041.8

### स्यंदोलिका

झुला गति 1035.3

### स्यमीक

मुद्रण नील 289.52

### स्यात

संभवतः 68 19

### स्याह्लाद

स्याह्लाद 737.5 ⇨

### स्थाना

ग्राम मुखिया 892 6

धिकित्सक 171.13

### स्थाना [स्थानी]

अनुभवी 303.17

कुटिल 818.7

व्यवहार कुशल 828.10

स्वार्थी 712.16

### स्थापा

मृत्यु गीत 797.9

### स्थालिका

साली 724 39

### स्थाली

साली 724 39

### स्थाह

अकल्याणकारी 711.9

काला 289.37

### स्थाहकार

व्यभिचारी 806.10

### स्थाहकारा

व्यभिचारिणी 806 11

### स्याहधरम

उपेक्षक 185.8

निष्ठाहीन 827 16

### स्याहप्राबान

शाप दाता 713 10

### स्याहताब

इस्पात 93.11

### स्याहदिल

अकल्याण कामी 711 11

### स्याह सफ़ेद

विपरीतता उपमान सूची 310 13

### स्याही

अपराध 861 1

कालिख 106 18

मुद्रण रग्य 290 16

लाछन 843 7

स्याही 416.25 ⇨

### स्याहीघटा

स्याही सोख़ता 416 30

### स्याहीदान

दवात 416 26

### स्याही दानी

दवात 416.26

### स्याही सोख़ता

ब्लोटिंग पेपर 416.31

स्याही सोख़ता 416.30 ⇨

### स्यु

घागा 569.7

### स्युत

बुना [बुनी] 578.27

बोरा 673.18

सिला [सिली] 577.28

### स्युति

सिलाई 577 1

### स्युतिकार

सिलाई कर्मी 577 2

### स्यून

बोरा 673 18

### स्यूसी

निर्झरणशील 21.38

प्रलंबित 1024.10

### स्यक

माला घागा 569.8

### स्यग्दाभ

माला घागा 569.8

### स्यग्धर

माला धारी 228.55

### स्यग्दान

माला धारी 228.55

### स्यग्दली

जलधारा 21.15

### स्यग्

निर्झर 21.8

फुहारा 1032.10

### स्यग्ण

आसवन 82.1

आव 1032.1

आव 83.3

### स्यवण क्षेत्र

जल क्षेत्र 21 7

### स्यवणशील

आवशील 1032 27

### स्यवित

टपका [टपकी] 1032.32

स्यवित 83 16 ⇨

स्यवित 1032.26 ⇨

### स्यवित करना

स्यवित करना 83 12 ⇨

### स्यवित होना

आव होना 1032 16

### स्यवी

आवशील 1032.27

### स्यव्य

शरीरव्य 129 6

### स्यव्य

रघनीय 527 13

### स्यव्य

उत्पादक 546 13

कलाकार 397 16

प्रजापति 787 1

ब्रह्मा 766 1

रचेता 527 14

विष्णु 768 1

साहित्य लेखक 448 2

सृष्टि रचेता 529.5

### स्यव्यार

ब्रह्मा 766 1

रचेता 527 14

विष्णु 768 1

सृष्टि रचेता 529 5

### स्यव्यस्त

कंपित 1039 20

कतित 543.14

प्रलंबित 1024.10

संघलित 1037.20

स्यवित 83.16

### स्यव्य

निर्यास 84 7

प्रवाह 1041 1

शरीरव्य 129 6

आव 83 3 ⇨

आव 1032.1 ⇨

### स्यव्यक

आसवक 82.8

आवक 1032.28 ⇨

### स्यव्यकर्ता

आवक 1032.28

### स्यव्यण

आसवन 82.1

आवण 83.4 ⇨

आवण 1032.2 ⇨

आवण उपकरण

आवण उपकरण 83.5 ⇨

### स्यव्यशील

आवशील 83.17 ⇨

आवशील 1032.27 ⇨

### स्यव्य होना

आव होना 1032.16 ⇨

### स्यव्यवित

निष्कथित 83.14

स्यवित 1032.26

### स्यव्यवी

आवक 1032 28

आवशील 1032.27

### स्यव्युति

आव 1032.1

### स्यव्युषा

यज्ञ चमस 753 23

### स्यव्योत

उत्स्रोत 21 1

खान 92 14

भंडार 670.3

### स्यव्योतज

उत्स्रोतज 21 36

### स्यव्योतन

उत्स्रोतन 21 2

### स्यव्योतयुक्त

जलस्रोतयुक्त 21.34

### स्यव्योतस्थिनी

नदी 20.1

### स्यव्योतोजन

सीसा 94 14

### स्यव्योतोजव

जल प्रवाह 21.9

### स्यव्योत

उत्स्रोतज 21.36

### स्यव्योतबरेट

स्लबरेट 1076.18 ⇨

### स्यव्योतबरेट (अँ)

स्लबरेट 1076.18

### स्यव्योत (अँ)

गदी बस्ती 619.2

### स्यव्योतइड

स्लाइड 405.12 ⇨

### स्यव्योतइड (अँ)

स्लाइड 405 12

### स्यव्योतइड रूल

स्लाइड रूल 950.17 ⇨

### स्यव्योतइड रूल (अँ)

स्लाइड रूल 950.17

### स्यव्योतइसर

स्लाइसर 202.31 ⇨

### स्यव्योतइसर (अँ)

स्लाइसर 202 31

### स्यव्योतइसर (अँ)

कटलरी सूची 681.14

### स्यव्योतइसर (अँ)

गलजंदका 174 11

### स्यव्योतइसर नीट (अँ)

फेदा 572 8

फेक फेदा, 1013.10

### स्यव्योतइसर

स्लीपर 597.12 ⇨

स्लीपर (अं)  
 बर्थ 594.16  
 शायिका 1076 17  
 स्लीपर 597 12  
 स्लीपर कोच  
 स्लीपर कोच 1076.6 ⇨  
 स्लीपर कोच (अं)  
 स्लीपर कोच 1076 6  
 स्लीपरैट  
 स्लीपरैट 594.17 ⇨  
 स्लीपरैट (अं)  
 स्लबरेट 1076 18  
 स्लीपरैट 594 17  
 स्लीपिंग घेयर (अं)  
 स्लबरेट 1076 18  
 स्लीपिंग बैग  
 स्लीपिंग बैग 593 60 ⇨  
 स्लीपिंग बैग 1087 35 ⇨  
 स्लीपिंग बैग (अं)  
 स्लीपिंग बैग 1087 35  
 स्लीपिंग बैग 593 60  
 स्लीपिंग सूट  
 स्लीपिंग सूट 583 21 ⇨  
 स्लीपिंग सूट (अं)  
 स्लीपिंग सूट 583 21  
 स्लीव (अं)  
 आस्तीन 585 77  
 स्लेजिंग (अं)  
 स्लेजिंग 477 22  
 स्लेट (अं)  
 सलेट 415 5  
 सलेट पत्थर 99 11  
 स्लैज  
 स्लैज 588 40 ⇨  
 स्लैज (अं)  
 स्लैज 588 40  
 स्लैज आरोहण  
 स्लेजिंग 477 22  
 स्लैज संचालन  
 स्लेजिंग 477 22  
 स्लेजिंग  
 स्लेजिंग 477.22 ⇨  
 स्लेजिंग (अं)  
 स्लेजिंग 477 22  
 स्लेपस्टिक  
 स्लेपस्टिक 463 6 ⇨  
 स्लेपस्टिक (अं)  
 स्लेपस्टिक 463 6  
 स्लो मार्च  
 स्लो मार्च 1083 14 ⇨  
 स्लो मार्च (अं)  
 स्लो मार्च 1083 14  
 स्था:  
 व्याहृति सूची 741 24  
 स्थ  
 अनानुवंशिक 727 40  
 औरस 716.15  
 मेरा [मेरी] 316.27

मै 316 20  
 वैयक्तिक 689.3  
 स्वजनीय 725 5  
 स्वकथा  
 आपबीती 450 17  
 स्वकरण  
 अंगीकरण 1002 3  
 विवाहन 799 6  
 स्वकर्म  
 अपना व्यवसाय 650 12  
 स्वनियोजन 653 8  
 स्वकर्मी  
 स्वनियोजक 653 34  
 स्वकल्याण  
 आत्महित 712 3  
 स्वकार्य  
 अपना व्यवसाय 650 12  
 स्वनियोजन 653 8  
 स्वकीय  
 निजी (संपत्ति) 624 16  
 मेरा [मेरी] 316 27  
 रिश्तेदार 715 6  
 वैयक्तिक 689 3  
 सम्बंधित 715 10  
 स्वकीया  
 स्वकीया नायिका 456 16  
 स्वपत्नी 805 3  
 स्वकीया नायिका  
 स्वकीया नायिका 456 16 ⇨  
 स्वकुल  
 सहवश 727 3  
 स्वकृत  
 अंगीकृत 1002 23  
 मौलिक 397 36  
 स्वांगीकृत 1002 25  
 स्वकृतता  
 स्वकृतता 505 35 ⇨  
 स्वकृतता  
 मौलिकता 397 23  
 स्वकेंद्रता  
 आत्मलीनता 331 7  
 स्वकेंद्रित  
 आत्मलीन 331 15  
 स्वगत  
 वैयक्तिक 689 3  
 स्वत कृतता 505 36  
 स्वगत कथन  
 आत्मसात् वचन 465.2  
 स्वगत प्रश्नोत्तर  
 आकाश वचन 465.4  
 स्वगुण  
 लक्षण 317 5  
 स्वगीरव  
 अभिमान 858 1  
 स्वग्राही  
 स्वार्थ साधक 712 17  
 स्वघात  
 आत्महत्या 249.13

स्वघाती  
 आत्महता 249.31  
 स्वघोष  
 नर मुरगी 126 65  
 स्वघोषित  
 स्वघोषित (दावेदार) 897 19  
 स्वघोषित (दावेदार)  
 स्वघोषित (दावेदार) 897.19 ⇨  
 स्वघोषित अधिकार  
 अधिकार दावा 897 5  
 स्वचल यान  
 मोटर यान 1071.54  
 स्वघालन  
 यत्र घालन 1046 4  
 स्वघालनीकरण  
 यत्रीकरण 1046.5  
 स्वघालित  
 यत्र घालित 1046.27  
 स्वघालिततः  
 यत्र घालिततः 1046 33  
 स्वघालित न होना  
 मानव घालित होना 1046 17  
 स्वघालित मानव  
 यत्र मानव 558 11  
 स्वघालितयत  
 यत्रवत् 1046 32  
 स्वघालित होना  
 यत्र रो चलना 1046 18  
 स्वघालित्र  
 स्वघालित्र 1046 8 ⇨  
 स्वधितन  
 आत्मविचारण 330 9  
 स्वच्छंद  
 अविमस्त 382 23  
 निवृत्तणहीन 900 8  
 निरंकुश 881 40  
 व्यभिचारी 806 10  
 स्वच्छेधारितापूर्ण 809.6  
 स्वच्छेधारिः 809 7  
 स्वच्छंदता  
 अविमदितः 880 15  
 स्वच्छेधारितः 809 11  
 स्वच्छंदता  
 अनिषेध 880.2  
 नियंत्रणहीनता 900 2  
 निरंकुश तंत्र 881.22  
 स्वच्छेधारः 809.1  
 स्वच्छंदतापूर्ण  
 स्वच्छेधारितापूर्ण 809.6  
 स्वच्छ  
 धूमहीन 106.27  
 पापहीन 813.9  
 मेघहीन 55.15  
 सुलिखित 412.46  
 स्वच्छ 218.33 ⇨  
 स्वच्छ (दे.)  
 उज्ज्वल 218.37  
 सुजीवितापूर्ण 170.11

स्वच्छक  
 स्वच्छक 218.38 ⇨  
 स्वच्छ करना  
 स्वच्छ करना 218.24 ⇨  
 स्वच्छ जल  
 पेय जल 88 7  
 स्वच्छता  
 पापहीनता 813 1  
 स्वच्छता 218.1 ⇨  
 स्वच्छता (दे.)  
 सुजीविता 170.2  
 स्वच्छता व्यवस्था  
 नागर सुजीविता 170.4  
 स्वच्छन  
 स्वच्छीकरण 218 2  
 स्वच्छ वायु  
 शुद्ध वायु 85.3  
 स्वच्छीकरण  
 स्वच्छीकरण 218.2 ⇨  
 स्वच्छीकृत  
 विशुद्ध 219 7  
 स्वच्छेधारितापूर्ण  
 स्वच्छेधारितापूर्ण 809.6 ⇨  
 स्वजन  
 स्वयं उत्पन्न 546.10  
 स्वजाता  
 औरसता 716.2  
 स्वजन  
 रिश्तेदार 715.6  
 स्वजन 725.1 ⇨  
 स्वजनता  
 रिश्तेदारी 715 5  
 स्वजन भावना  
 स्वजन भावना 725.2 ⇨  
 स्वजन भावनापूर्ण  
 स्वजन भावनापूर्ण 725.6 ⇨  
 स्वजन समष्टि  
 स्वजन 725 1  
 स्वजन समूह  
 स्वजन 725 1  
 स्वजनीय  
 स्वजनीय 725.5 ⇨  
 स्वजन्म  
 स्वयं उत्पत्ति 546.6  
 स्वजन्मा [स्वजन्मी]  
 स्वयं उत्पन्न 546.10  
 स्वजा  
 पुत्री 718.10  
 स्वजात  
 मानव अरक्षित 528.9  
 स्वयं उत्पन्न 546.10  
 स्वजाति  
 स्वजाति 730.3 ⇨  
 स्वजाति भक्ती  
 स्वजाति भक्ती 205.11 ⇨  
 स्वजाति समर्थन  
 जातिवाद 884.32

## स्वजातीय

स्वजातीय  
स्वजातीय 730.20 ⇨  
स्वजित  
इंद्रिय निग्रही 364.13  
काम विषेता 237.16  
यति 790.8  
स्वजेता  
जितेंद्रिय 364.14  
संयमी 808.17  
स्वज्ञाति  
स्वजाति 730.3  
स्वजातीय 730.20  
स्वज्ञान  
आत्मज्ञान 761.4  
स्वतंत्र  
अनिषिद्ध 880.13  
अपक्षधर 887.9  
छंदहीन 452.54  
निर्दलीय 887.14  
मौलिक 397.36  
स्वच्छेचारितापूर्ण 809.8  
स्वनिर्गोजक 653.34  
स्वाधीन 900.7  
स्वतंत्र अस्तित्व  
अभिभ्रण 1008.17  
स्वतंत्र कृति  
मौलिक कृति 397.24  
स्वतंत्र चिंतन  
स्वतंत्र विचार 330.4  
स्वतंत्र छंद  
मुक्त छंद 452.2  
स्वतंत्रतः  
स्वेच्छाधारितः 809.11  
स्वतंत्रता  
अनिषेध 880.2  
अपक्षधरता 887.1  
अपरिसीमितता 1001.11  
उन्मुक्तता 1015.4  
निर्दलीयता 887.5  
स्वाधीनता 900.1  
स्वालंबितलता 648.2  
स्वेच्छाधार 809.1  
स्वेच्छापूर्णता 650.6  
स्वतंत्रता आंदोलन  
स्वतंत्रता संग्राम 904.1  
स्वतंत्रता दिवस  
स्वतंत्रता दिवस 58.12 ⇨  
स्वतंत्रता विरोध  
स्वतंत्रता विरोध 90.4 ⇨  
स्वतंत्रता विरोधी  
स्वतंत्रता विरोधी 904.15 ⇨  
स्वतंत्रता संग्राम  
स्वतंत्रता संग्राम 904.1 ⇨  
स्वतंत्रता संग्राम करना  
स्वतंत्रता संग्राम करना 904.16 ⇨  
स्वतंत्रता संग्राम विरोध  
स्वतंत्रता विरोध 904.14

स्वतंत्रता संग्राम विरोधी  
स्वतंत्रता विरोधी 904.15  
स्वतंत्रता सेनानी  
स्वतंत्रता सेनानी 904.2 ⇨  
स्वतंत्र पत्रकार  
स्वतंत्र पत्रकार 445.10 ⇨  
स्वतंत्र प्रवेशाधिकार  
अपरिसीमितता 1001.11  
स्वतंत्र बूटा  
बूटा 578.15  
स्वतंत्र रचना  
मौलिक कृति 397.24  
स्वतंत्र विचार  
स्वतंत्र विचार 330.4 ⇨  
स्वतंत्र कला सहित मिश्रण  
तिल तंडुल मिश्रण 1008.2  
स्वतंत्र कुजन  
मौलिकता 397.23  
स्वतः  
अप्रयत्नतः 490.15  
आदतन 836.14  
यंत्र चालिततः 1046.33  
स्वतःकृततः 505.36  
स्वभावतः 836.15  
स्वतः आलोकन  
स्वतः आलोकन 285.3 ⇨  
स्वतःकृततः  
स्वतःकृततः 505.36 ⇨  
स्वतः निर्वास  
निर्वास 84.7  
स्वतः प्रमाणित  
स्वतः प्रमाणित 327.10 ⇨  
स्वतः श्रुत  
स्वतः श्रुत 293.15 ⇨  
स्वतः सिद्ध  
स्वतः प्रमाणित 327.10  
स्वतः स्फूर्त  
मौलिक 397.36  
स्वतत्त्व  
अहं तत्त्व 351.3  
स्वता  
व्यक्तित्व 836.1  
स्वत्यागी  
आत्मबलिदानी 754.23  
स्वत्व  
अहं तत्त्व 351.3  
पट्टेदारी 622.5  
सत्ता 899.1  
सीमांतर्गतता 1001.21  
स्वाधीनता 900.1  
स्वत्व अंतरण  
स्वत्व अंतरण 622.16 ⇨  
स्वत्व अंतरण पत्र  
स्वत्व अंतरण पत्र 622.17 ⇨  
स्वत्व परित्याग  
स्वत्व परित्याग 622.18 ⇨  
स्वत्व परित्याग पत्र  
स्वत्व अंतरण पत्र 622.17

स्वत्वपूर्ण  
व्यक्तित्वयुक्त 836.7  
स्वत्वयुक्त  
व्यक्तित्वयुक्त 836.7  
स्वत्व शुल्क  
रायल्टी 621.13  
स्वत्व हरण  
अधिग्रहण 635.1  
स्वत्वहीनता  
व्यक्तित्वहीनता 836.2  
स्वत्वाधिकार  
कापीराइट 621.11  
पेटेंट 621.14  
स्वामित्व अधिकार 621.1  
स्वत्वाधिकार शुल्क  
रायल्टी 621.13  
स्वत्वाधिकारी  
स्वामी 621.2  
स्वदन  
लेहन 181.8  
स्वदर्शन  
आत्मज्ञान 761.4  
स्वदर्शी  
आत्मज्ञानी 761.28  
स्वदारा  
स्वपत्नी 805.3  
स्वदाह  
जीहर प्रथा 249.14  
सती प्रथा 249.15  
स्वदेश  
भारत 28.1  
सीमांतर्गत प्रदेश 1001.22  
स्वदेश 34.12 ⇨  
स्वदेशता  
सीमांतर्गतता 1001.21  
स्वदेश त्याग  
प्रवासन 618.4  
स्वदेश द्रोही  
राष्ट्र द्रोही 827.21  
स्वदेश प्रेम  
राष्ट्र निष्ठा 826.5  
स्वदेश प्रेमी  
राष्ट्रनिष्ठ 826.12  
स्वदेश बंधु  
स्वदेश वासी 34.21  
स्वदेश वासी  
स्वदेश वासी 34.21 ⇨  
स्वदेशी  
स्वदेशीय 34.20  
स्वदेशीय  
स्वदेश वासी 34.21  
स्वदेशीय 34.20 ⇨  
स्वप्रोही  
आत्मद्वेषी 709.8  
स्वपीडक 391.31  
स्वधर्म  
अपना व्यवसाय 650.12  
स्वधर्म 735.7 ⇨

स्वधर्म द्युत  
धर्मद्युत 742.32  
स्वधर्म द्युति  
कर्तव्य विमुखता 896.3  
स्वधर्म त्याग  
धर्म त्याग 742.13  
स्वधर्म परधर्म  
स्वधर्म परधर्म 735.6 ⇨  
स्वधर्म विधर्म  
स्वधर्म परधर्म 735.6  
स्वधर्मरथता  
कर्तव्य पालन 895.5  
स्वधर्मी  
स्वधर्मी 735.17 ⇨  
स्वधा  
आहार पदार्थ 186.1  
आहुति द्रव्य 753.27  
नृजाति 730.14  
माया 762.9  
स्वधाकर  
श्राद्ध कर्ता 253.41  
स्वधाकार  
स्वधाकार 753.8 ⇨  
स्वधाभोजी  
पितृ 253.26  
स्वधिति  
कुल्हाड़ी 559.10  
परशु 924.14  
स्वधिति हेतिक  
परशुधारी 930.14  
स्वन  
ध्वनि 294.1  
स्वन आधारित छंद  
स्वानिक छंद 452.5  
स्वन गति  
स्वन गति 1042.5 ⇨  
स्वन गति अनुपात  
माख संख्या 1042.7  
स्वनन  
ध्वनन 294.2  
स्वन माप  
स्वन माप 958.45 ⇨  
स्वन मापी  
स्वन मापी 958.47 ⇨  
स्वनांक (प्र)  
स्वन मापी 958.47  
स्वनानुपात अंक (प्र)  
नभयान गति माप 958.33  
स्वनामधन्य  
ख्यात 847.3  
स्वनारी  
स्वपत्नी 805.3  
स्वनिक  
ध्वनिकारी 294.22  
स्वनिग्रह  
संयम 808.8  
स्वनित  
ध्वनित 294.21



स्वनियंत्रण  
चेतना 263.4  
स्वनियोजक  
स्वनियोजक 653.34 ⇨  
स्वनियोजन  
स्वनियोजन 653.8 ⇨  
स्वनियंत्र  
स्वनियोजक 653.34  
स्वनियंत्रता  
स्वालंबितता 648.2  
स्वनियेदन  
नियेदन 350.1  
स्वनी  
ध्वनिकारी 294.22  
स्वन्य  
ध्वनीय 294.19  
स्वपक्ष  
स्वपक्ष 885.4 ⇨  
स्वपक्षी  
स्वपक्षीय 885.27  
स्वपक्षीय  
स्वपक्षीय 885.27 ⇨  
स्वपति  
स्वपति 805.2 ⇨  
स्वपत्नी  
स्वपत्नी 805.3 ⇨  
स्वपीडक  
स्वपीडक 391.31 ⇨  
स्वपीडन  
स्वपीडन 391.12 ⇨  
स्वपुत्र  
स्वपति 805.2  
स्वप्न  
कल्पना 308.1  
स्वप्न 267.1 ⇨  
स्वप्न आना  
स्वप्न आना 267.6 ⇨  
स्वप्नकर  
निद्राकारी 266.14  
स्वप्नधारिता  
सुप्ताटन 267.4  
स्वप्नधारी  
सुप्ताटक 267.5  
स्वप्न दर्शी  
दिवा स्वप्न दर्शी 267.10  
स्वप्न देखना  
स्वप्न आना 267.6  
स्वप्न भीति  
दुःस्वप्न 267.3  
स्वप्नवादी  
भविष्यवादी 344.10  
स्वप्नशील  
स्वप्निल 267.9  
स्वप्नसात  
निद्रित 266.13  
स्वप्नाटन  
सुप्ताटन 267.4

स्वप्नातीत  
कल्पनातीत 944.10  
प्रत्याशातीत 944.9  
स्वप्नातीतता  
प्रत्याशातीतता 944.3  
स्वप्नाधिक  
प्रत्याशातीत 944.9  
स्वप्निल  
स्वप्निल 267.9 ⇨  
स्वप्नशांसा  
परिजल्प 435.12  
स्वप्नशांसी  
आत्मप्रशंसक 842.12  
स्वप्नसूत [स्वप्नसूता]  
स्वयं उत्पन्न 546.10  
स्वबोध  
आत्मज्ञान 761.4  
स्वभट  
आत्मरक्षक 908.22  
स्वभार्या  
स्वपत्नी 805.3  
स्वभाव  
अहं तत्त्व 351.3  
लक्षण 317.5  
व्यक्तित्व 836.1  
स्वभाव 836.4 ⇨  
स्वभावगत  
स्वाभाविक 836.11  
स्वभावज  
मानव अरपित 528.9  
स्वाभाविक 836.11  
स्वभावजता  
स्वाभाविकता 836.5  
स्वभावतः  
अप्रयत्नतः 490.15  
स्वभावतः 836.15 ⇨  
स्वभावयुक्त  
स्वभावयुक्त 836.10 ⇨  
स्वभाववशा  
आदतन 836.14  
स्वभाव बाला  
स्वभावयुक्त 836.10  
स्वभावी  
स्वभावयुक्त 836.10  
स्वाभाविक 836.11  
स्वभू  
शिव 767.1  
स्वभूत [स्वभूता]  
स्वयं उत्पन्न 546.10  
स्वभूति  
स्वयं उत्पत्ति 546.6  
स्वभूमि  
स्वदेश 34.12  
स्वमंधन  
आत्मविचारण 330.9  
स्वमन्यक  
सुरधिमन्यक 400.21

स्वभानी  
स्वभिमानी 858.11  
स्वमोह  
आत्ममोह 353.17  
स्वयं  
यं 316.20  
स्वतःकृततः 505.36  
स्वयं उत्पत्ति  
स्वयं उत्पत्ति 546.6 ⇨  
स्वयं उत्पन्न  
स्वयं उत्पन्न 546.10 ⇨  
स्वयं का  
मेरा [मेरी] 316.27  
स्वयंकृति  
अंगीकरण 1002.3  
स्वयंप्रहण  
अधिग्रहण 635.1  
स्वयं घयन  
स्वयं घयन 1009.3 ⇨  
स्वयंजात  
कामदेव 773.12  
मानव अरपित 528.9  
स्वयंता  
अहं तत्त्व 351.3  
स्वयंपाकी  
इकलखुरा [इकलखुरी] 183.39  
स्वयंप्रकारा  
ईश्वर 764.1  
स्वयंप्रभ  
ईश्वर 764.1  
स्वयंप्रभा  
अप्सरा सूची 782.3  
स्वयंभुव  
ईश्वर 764.1  
ऋत्वा 766.1  
शिव 767.1  
स्वयं उत्पन्न 546.10  
स्वयंभुव मनु 788.6  
स्वयंभुवन  
स्वयं उत्पत्ति 546.6  
स्वयंभू  
अकृषित (अनाज) 187.22  
ईश्वर 764.1  
गीतम बुद्ध 793.1  
ब्रह्म 764.24  
ब्रह्मा 766.1  
मानव अरपित 528.9  
विष्णु 768.1  
स्वयंभूत (दावेदार) 897.19  
स्वयं उत्पन्न 546.10  
स्वयंभुव मनु 788.6  
स्वयंभूः तामसी प्रकृति  
भव 767.28  
स्वयं रानी  
स्वयं रानी 882.19 ⇨  
स्वयंवर  
स्वयंवर विवाह 799.18

स्वयंवर करना  
स्वयंवर करना 799.48 ⇨  
स्वयं वरण  
स्वयं घयन 1009.3  
स्वयंवर विवाह 799.18  
स्वयंवर रचाना  
स्वयंवर करना 799.48  
स्वयंवर विवाह  
स्वयंवर विवाह 799.18 ⇨  
स्वयंवर  
स्वयंवर 799.19 ⇨  
स्वयंवरशाता  
स्वाधीनता 900.1  
स्वयंवर  
यंत्र चालित 1046.27  
स्वयंवादी  
मिथ्या साक्षी 876.19  
स्वयं सक्ती  
स्वयं सक्ती 882.26 ⇨  
स्वयंशिद्ध  
स्वतः प्रमाणित 327.10  
स्वयं सेवा  
सहयोग समर्पक 700.21  
स्वयं सेवा  
सहयोग समर्पण 700.2  
स्वयंभिगत  
स्वार्जित 648.10  
स्वयंभिगत  
अधिग्रहीत 635.16  
स्वयंमर्जित  
स्वार्जित 648.10  
स्वयंभीष्म  
स्वालंबी 648.11  
स्वयंमेव  
स्वतःकृततः 505.36  
स्वयम्  
एकांततः 697.21  
स्वयं योजना  
बंदिश 458.20  
स्वयंनि  
परदा निषिद्ध संबंधी 591.6  
विष्णु 768.1  
स्वर  
कठ स्वर 459.31  
लय 458.22  
संगीत स्वर 459.1  
स्वर अक्षर 410.6  
स्वर (दे.)  
वाद्या 299.1  
स्वर अक्षर  
स्वर अक्षर 410.6 ⇨  
स्वर अलंकार  
स्वर अलंकार 405.10 ⇨  
स्वर अलंकार सूची  
स्वर अलंकार सूची 405.11 ⇨  
स्वर अवरोह  
अवरोह 458.4

## स्वर अस्फुटता

**स्वर अस्फुटता**  
 फुसफुसाहट 299.14  
**स्वर आरोह**  
 आरोह 458.3  
**स्वर आरोह अवरोह**  
 आरोह अवरोह 458.1  
**स्वरः आरोह अवरोह क्रम**  
 लय 458.22  
**स्वर आलाप**  
 आलाप 458.5  
**स्वर कंप**  
 स्वर कंपन 459.32  
**स्वर कंपन**  
 स्वर कंपन 459.32 ⇌  
 स्वर स्पंदन 465.15  
**स्वरक**  
 अभिव्यक्ति कर्ता 428.18  
 कथन कर्ता 430.18  
**स्वरकर**  
 ध्वनिकारी 294.22  
**स्वर करना**  
 ध्वनि करना 294.15  
**स्वरक्षक**  
 आत्मरक्षक 908.22  
**स्वरक्षी**  
 आत्मरक्षक 908.22  
**स्वर गंगा**  
 आरोह अवरोह क्रम 458.2  
**स्वरग्राम**  
 सप्तक 459.3  
**स्वर ऋज्ज्वा उत्तरना**  
 आरोह अवरोह होना 458.52  
**स्वरधित**  
 मौलिक 397.36  
**स्वरधितता**  
 मौलिकता 397.23  
**स्वर छिद्र**  
 गौसुपी स्वर छिद्र 461.102  
**स्वर ठहराव**  
 स्वर ठहराव 459.33 ⇌  
**स्वरण**  
 अभिव्यक्ति 428.1  
 कथन 430.1  
 ध्यान 294.2  
**स्वर दाता**  
 कथन कर्ता 430.18  
**स्वर देना**  
 कटना 430.11  
**स्वर दोष**  
 स्वर विकार 299.9  
**स्वरनादी**  
 स्वरवाही वाद्य 461.14  
**स्वरपतन**  
 सामवेद 740.34  
**स्वर परिवर्तन**  
 काकु 465.14  
 मीढ़ 460.10

**स्वरपात**  
 स्वर ठहराव 459.33  
 स्वरघात 411.8  
**स्वर बैठना**  
 स्वर बैठना 299.20 ⇌  
**स्वर ब्रह्म**  
 ओम् 741.19  
 योग ध्वनि 756.18  
 शब्द ब्रह्म 764.30  
 स्वर सामंजस्य 460.15  
**स्वर भंग**  
 स्वर भंग 299.13 ⇌  
**स्वर भंगिमा**  
 स्वर भंगिमा 299.4 ⇌  
**स्वरभंगी**  
 संगीत तर्ज 458.14  
**स्वर भेद**  
 काकु 465.14  
**स्वर मात्रा**  
 संगीत मात्रा 458.21  
 स्वर मात्रा 410.14 ⇌  
**स्वर माप**  
 स्वर माप 459.16 ⇌  
**स्वर मिलाना**  
 स्वर मिलाना 460.42 ⇌  
**स्वर लय**  
 स्वर लय 465.12 ⇌  
 स्वर लय 465.12  
**स्वर लय सूची**  
 स्वर लय सूची 465.13 ⇌  
**स्वरलिपि**  
 स्वरलिपि 459.15 ⇌  
**स्वर वाद्य**  
 शुभिर वाद्य 461.20  
**स्वरवाही वाद्य**  
 स्वरवाही वाद्य 461.14 ⇌  
**स्वर विकार**  
 स्वर विकार 299.9 ⇌  
**स्वर विन्यास**  
 स्वर विन्यास 460.13 ⇌  
**स्वर विस्तार**  
 तान 458.15  
**स्वरवेधी**  
 ध्वनिवेधी 931.25  
**स्वर संक्रम**  
 सप्तक 459.3  
 स्वर संक्रम 460.14 ⇌  
**स्वर संगति**  
 स्वर सामंजस्य 460.15  
**स्वरसंगा**  
 स्वर सामंजस्यपूर्ण 460.45  
**स्वर संवर्ध**  
 स्वर संक्रम 460.14  
**स्वरस**  
 आत्मानंद 382.5  
 रस 84.3

**स्वर सप्तक**  
 सप्तक 459.3  
**स्वर सरिता**  
 आरोह अवरोह क्रम 458.2  
**स्वर साधन**  
 स्वर साधन 460.9 ⇌  
**स्वर साधना**  
 स्वर साधन 460.9  
**स्वर सामंजस्य**  
 स्वर सामंजस्य 460.15 ⇌  
**स्वर सामंजस्यपूर्ण**  
 स्वर सामंजस्यपूर्ण 460.45 ⇌  
**स्वर स्थान**  
 वाद्य परदा 461.99  
**स्वर स्थिति काल**  
 संगीत मात्रा 458.21  
**स्वर स्पंदन**  
 स्वर स्पंदन 465.15 ⇌  
**स्वरहीन**  
 वाद्याहीन 429.25  
**स्वरहीनता**  
 बेसुरापन 459.35  
 वाद्याहीनता 429.5  
**स्वरहीन व्यंजन**  
 हलंत (वर्ण) 410.25  
**स्वरशा**  
 संगीत श्रुति 459.14  
**स्वरा**  
 ब्रह्मा पत्नी सूची 766.6  
**स्वराघात**  
 स्वराघात 411.8 ⇌  
**स्वराघात परिवर्तन**  
 काकु 465.14  
**स्वराज**  
 स्वाधीनता 900.1  
**स्वराजी**  
 स्वतंत्रता सेनानी 904.2  
**स्वराज्य**  
 स्वाधीनता 900.1  
**स्वराष्ट्र**  
 स्वराष्ट्र 881.4 ⇌  
**स्वराष्ट्र प्रेम**  
 राष्ट्र निष्ठा 826.5  
**स्वराष्ट्र प्रेमी**  
 राष्ट्रनिष्ठ 826.12  
**स्वराष्ट्र विषयक**  
 स्वराष्ट्रीय 881.31  
**स्वराष्ट्रीय**  
 स्वराष्ट्रीय 881.31 ⇌  
**स्वरित**  
 अभिव्यक्त 428.17  
 उच्चारित 411.17  
 कथित 430.18  
 ध्वनित 294.21  
**स्वरियता**  
 सुरीलापन 459.34  
 स्वर सामंजस्य 460.15

**स्वरुधि**  
 स्वेच्छाघारी 809.7  
**स्वरूप**  
 धित्र 404.1  
 मूर्ति 406.1  
 व्यक्तित्व 836.1  
 सदृश्य 309.20  
 स्वरूप 967.6 ⇌  
 स्वरूपी 967.17  
**स्वरूपतः**  
 अनुसार 514.26  
**स्वरूपिका**  
 मूर्ति 406.1  
**स्वरूपिणी**  
 महाकाली 778.4  
**स्वरूपी**  
 स्वरूपी 967.17 ⇌  
**स्वरैणु**  
 संज्ञा 774.94  
**स्वरैक्य**  
 सर्व सहमति 337.4  
**स्वरैतपादक वाद्य**  
 स्वरवाही वाद्य 461.14  
**स्वरौद**  
 सरोद 461.84  
**स्वरौदय**  
 उच्चारण 411.1  
**स्वरौदय शास्त्र**  
 सरोधा शास्त्र 262.16  
**स्वर्ग**  
 समृद्धि 626.1  
 सुख धाम 390.4  
 स्वर्ग 259.1 ⇌  
**स्वर्ग (दे.)**  
 विहिरत 259.2  
**स्वर्ग गंगा**  
 आकाश गंगा 1.14  
**स्वर्ग गिरि**  
 सुमेरु 17.17  
**स्वर्गजीवी**  
 स्वर्ग निवासी 259.11  
**स्वर्गत**  
 शिव 767.1  
**स्वर्ग तरु**  
 कल्पवृक्ष 13.29  
**स्वर्ग द्वार**  
 वसंत विबुध 5.24  
**स्वर्ग नरक**  
 विपरीतता: उपमान सूची 310.13  
**स्वर्ग निवास**  
 स्वर्ग निवास 259.5 ⇌  
**स्वर्ग निवासी**  
 स्वर्ग निवासी 259.11 ⇌  
**स्वर्ग पति**  
 इंद्र 773.5.  
**स्वर्ग पथ**  
 आकाश 2.1

**स्वर्ग पुरी**

इंद्र नगर अमरावती 773 7  
 स्वर्गः माता  
 यामि 787 18  
 स्वर्ग लोक  
 स्वर्ग 259 1  
 स्वर्ग वाणी  
 आकाश वाणी 465 5  
 स्वर्गवास  
 मृत्यु 249 1  
 स्वर्गज्ञास होना  
 मरना 249 18  
 स्वर्गवासी  
 मृत 249 23  
 मृत व्यक्ति उपाधि सूची 856 7  
 स्वर्गः वृक्ष सूची  
 स्वर्ग वृक्ष सूची 13 28 ⇨  
 स्वर्ग सुख  
 अप्सरा 782 2  
 स्वर्ग हस्ती  
 ऐरावत 780 5  
 स्वर्गाधिपति  
 ईसा 791 8  
 स्वर्गारोहण पर्व  
 महाभारत पर्व सूची 771 23  
 स्वर्गिक  
 स्वर्गिक 259 10 ⇨  
 स्वर्गी  
 स्वर्गीक 259 10  
 स्वर्गीय  
 मृत 249 23  
 स्वर्ग निवासी 259 11  
 स्वर्गिक 259 10  
 स्वर्गेश्वरी  
 मरियम 791 19  
 स्वर्गीका  
 देवता 772 1  
 स्वर्ग्य  
 अति प्राकृतिक 762 11  
 स्वर्ग निवासी 259.11  
 स्वर्गिक 259 10  
 स्वर्जि क्षार  
 सज्जी 87 17  
 स्वर्जी  
 शोरा 87 16  
 सज्जी 87.17  
 स्वर्ण  
 अष्टधातु सूची 93.6  
 स्वर्ण-  
 पचासवीं [पचासवीं] 948.101  
 स्वर्ण  
 स्वर्ण 95.4 ⇨  
 स्वर्ण अंड  
 हिरण्य गर्भ 764.32  
 स्वर्ण कमल  
 रक्त कमल 14.6  
 स्वर्ण कर्म  
 स्वर्ण कर्म 506.1 ⇨

**स्वर्ण कर्मी**

स्वर्ण कर्मी 566 2 ⇨  
 स्वर्णकार  
 स्वर्ण कर्मी 566 2  
 स्वर्णकार बाज़ार  
 सोना चौंदा बाज़ार 663 19  
 स्वर्ण काल  
 उन्नति काल 534 2  
 स्वर्ण खान  
 स्वर्ण खान 92.16 ⇨  
 स्वर्ण गिरि  
 पौराणिक पर्वत सूची 17 8  
 स्वर्णघुड़  
 नीलकंठ 126 46  
 स्वर्ण जयंती  
 स्वर्ण जयंती 58 6 ⇨  
 स्वर्णजीवी  
 आभूषण व्यापारी 566 11  
 स्वर्णः तराजू  
 स्वर्ण तराजू 962 15 ⇨  
 स्वर्णद मणि  
 पारस मणि 96 19  
 स्वर्ण धातु  
 स्वर्ण 95 4  
 स्वर्ण पच्चीकारी  
 स्वर्ण पच्चीकारी 406.35 ⇨  
 स्वर्णपत्र  
 सम्मान फलक सूची 857 15  
 स्वर्ण पत्र कर्मी  
 कुंदनसाज 566 4  
 स्वर्ण पदक  
 स्वर्ण पदक 857 8 ⇨  
 स्वर्ण परीक्षा  
 कसीटी कर्म 566 7  
 स्वर्णपुरी  
 श्रीलंका 27 17  
 स्वर्ण पुष्पक  
 शिरीष 13 21  
 स्वर्ण पुष्पी  
 अमलतास 13 3  
 स्वर्ण भूषण  
 अमलतास 13 3  
 स्वर्ण माक्षिक  
 सोनामाखी 92 11  
 स्वर्ण मुद्रा  
 स्वर्ण सिक्का 629 4  
 स्वर्ण मूर्ति  
 स्वर्ण मूर्ति 406.15 ⇨  
 स्वर्ण मृग  
 मारीच 784.8  
 स्वर्ण युग  
 उन्नति कास 534.2  
 सत्ययुग 40.12  
 स्वर्ण रजत  
 चौंदा सोना 95.1  
 स्वर्ण राग  
 श्वेत कमल 14.7

**स्वर्ण राज**

श्वेत कमल 14 7  
 स्वर्णरेता  
 सूर्य 8 1  
 स्वर्ण वणिग  
 आभूषण व्यापारी 566 11  
 स्वर्णवर्णाक  
 मुदासख 92 12  
 स्वर्ण शैल  
 सुमेरु 17 17  
 स्वर्ण सिक्का  
 स्वर्ण सिक्का 629 4 ⇨  
 स्वर्ण सिद्धि  
 कीमियागारी 87.6  
 स्वर्णसू  
 स्वर्ण खान 92 16  
 स्वर्णाकर  
 स्वर्ण खान 92 16  
 स्वर्णाभ  
 हरताल 92 13  
 स्वर्णारि  
 गधक 92 8  
 सीसा 94 14  
 स्वर्णारम  
 कसीटी पत्थर 566 9  
 स्वर्णिम  
 पचासवां. [पचासवीं] 948 101  
 स्वर्णिम 289 58 ⇨  
 स्वर्णिमा  
 स्वर्णिमा 289 20 ⇨  
 स्वर्नगरी  
 इंद्र नगर अमरावती 773 7  
 स्वर्नोक  
 मात लोक सूची 258 6  
 स्वर्सरिता  
 आकाश गंगा 1 14  
 स्वलक्षण  
 विशिष्टता 312 2  
 स्वलाभ  
 जन्म 248.1  
 स्वर्णिग अत्यागी शब्द  
 अजहल्लिग 425 47  
 स्वलिखितः  
 स्वहस्तलिखित 412.52  
 स्वलिखित  
 हस्तलिखित 412.45  
 स्वलिखितता  
 मौलिकता 397.23  
 स्वलीन  
 अंतराभिमुखी 838.14  
 आत्मलीन 331.15  
 स्वलीनता  
 अंतराभिमुखता 838.6  
 आत्मलीनता 331.7  
 स्वल्प  
 सूक्ष्म 980.21  
 स्वल्प तंत्र  
 कुलतंत्र 881.13

**स्वल्प वरीं**

अदूरदशी 302.13  
 स्वल्पभाषी  
 अवाचाल 429.26  
 स्वल्पमायु  
 अल्प कालीन 38.8  
 अल्पायु 229 18  
 स्वल्पाहार  
 अल्पाहार 182.5  
 स्वल्पाहारी  
 अल्पाहारी 182.16  
 स्वल्पिष्ठ  
 अल्पतम 942 15  
 सूक्ष्मतम 980 22  
 स्वल्पेच्छ  
 सतोषशील 360 19  
 स्वयंश  
 सहयंश 727 3  
 स्वयंशी  
 सहयंशी 727.30  
 स्वयूति  
 कर्तव्य 895.4  
 स्वशिक्षित  
 स्वशिक्षित 321.48 ⇨  
 स्वश्लाघा  
 तर्प 858 5  
 स्वसंज्ञता  
 घेतनतः 263.14  
 स्वसंयम  
 संयम 608 8  
 स्वसत्ता  
 स्वाधीनता 900 1  
 स्वसमर्पक  
 युद्ध समर्पक 916.26  
 स्वसा  
 सगी बहन 723.19  
 स्वसुखाय  
 स्वच्छार्थ 650 23  
 स्वस्ति  
 कल्याण 710 2  
 दान ग्रहण 641.16  
 पत्रारंभ. सरोधन आदि सूची 444.41  
 ब्रह्मा पत्नी सूची 766.6  
 दिष्णु 768.1  
 शुभ आरंभः उक्ति सूची 521.9  
 शुभमस्तु 710.31  
 स्वस्तिक  
 कल्याणकारी 710.21  
 चक्रः चित्र 404.10  
 स्वस्तिक चक्र 407.20  
 स्वस्ति वाचक 710.24  
 स्वस्तिक चक्र  
 स्वस्तिक चक्र 407.20 ⇨  
 स्वस्ति कर्म  
 सात्कर्म 814.2  
 स्वस्तिका  
 धमेली 14.16  
 स्वस्तिक चक्र 407.20

## स्वस्तिकार

### स्वस्तिकार

बंदीजन 841.15  
 स्वस्तिकासन  
 योग आसन सूची 756.19  
 स्वस्तिसद  
 कल्याणकारी 710.21  
 विष्णु 768.1  
 शिव 767.1  
 स्वस्ति पाठ  
 स्वस्ति वाचन 710.5  
 स्वस्ति पाठक  
 स्वस्ति वाचक 710.24  
 स्वस्ति मंत्र  
 मंत्र सूची 741.4  
 स्वस्तिमती  
 दुर्गा 776.7  
 स्वस्तिमान  
 कल्याण सूचक 710.22  
 सूची 390.10  
 स्वस्तिमुख  
 स्वस्ति वाचक 710.24  
 स्वस्ति वाचक  
 आशीर्वाद दाता 714.11  
 स्वस्ति वाचक 710.24 ⇨  
 स्वस्ति वाचन  
 आशीर्वाद 714.4  
 शुभ आरंभ: कृत्य सूची 521.3  
 स्वस्ति वाचन 710.5 ⇨  
 स्वस्ति वाचनिक  
 आशीर्वाद दाता 714.11  
 स्वस्ति सीमा  
 क्रोस स्टिच 572.10  
 स्वस्वययन  
 दान ग्रहण 641.16  
 मंगल कलश 796.5  
 स्वस्त्री  
 स्वकीया नायिका 456.16  
 स्वस्थ  
 निरुद्दिग्न 378.9  
 बलिष्ठ 160.10  
 विश्रांत 494.21  
 सूची 390.10  
 स्थितप्रज्ञ 761.30  
 स्वस्थ 161.5 ⇨  
 स्वस्थ (ई.)  
 चिकित्सित 171.19  
 स्वस्थचित  
 स्थिरचित 355.6  
 स्वस्थता  
 स्वस्थता 161.3 ⇨  
 स्वस्थ होना  
 आरोग्य लाभ होना 171.17  
 स्वस्थानस्थता  
 स्थानस्थतः 1020.13  
 स्वस्थ  
 निजी (संपत्ति) 624.16  
 निजी संपत्ति 624.14  
 नेरा [नेरी] 316.27

### वैयक्तिक 689.3

स्वस्थ  
 निजी संपत्ति 624.14  
 स्वहस्तालिखितः  
 स्वहस्तालिखितः 412.52 ⇨  
 स्वहस्ताक्षरित  
 स्वहस्ताक्षरित 444.38 ⇨  
 स्वहा  
 आत्मद्वेषी 709.8  
 स्वहित  
 स्वार्थ 712.5  
 स्वौग  
 छद्म वेश 589.16  
 नाट्य वेश 484.38  
 मंच नाटक 463.1  
 सौंग 463.16  
 स्वौग 464.13 ⇨  
 हास्य नाटक 463.5  
 स्वौगी  
 छद्म वेशी 589.17  
 स्वौगी 464.14 ⇨  
 स्वौगीकरण  
 स्वौगीकरण 1002.4 ⇨  
 स्वौगीकृत  
 स्वौगीकृत 1002.25 ⇨  
 स्वौगीकृत करना  
 स्वौगीकृत करना 1002.17 ⇨  
 स्वांतःसुखाय  
 स्वच्छार्थ 650.23  
 स्वाक्षर  
 हस्ताक्षर 444.8  
 स्वाक्षरित  
 हस्ताक्षरित 444.37  
 स्वागत  
 अभिवादन 1080.1  
 वर स्वागत 800.46  
 सत्कार 184.1  
 स्वागत 1059.1 ⇨  
 स्वागत अधिकारी  
 स्वागत अधिकारी 1059.3 ⇨  
 स्वागत कक्ष  
 स्वागत कक्ष 1059.4 ⇨  
 स्वागत करना  
 स्वागत करना 1059.23 ⇨  
 स्वागत कर्ता  
 सत्कर्ता 184.7  
 स्वागत कर्ता 1059.27 ⇨  
 स्वागत कर्मी  
 स्वागत अधिकारी 1059.3  
 स्वागतकारी  
 स्वागत कर्ता 1059.27  
 स्वागत डेस्क  
 स्वागत डेस्क 1059.5 ⇨  
 स्वागत डेस्क  
 स्वागत डेस्क 1059.5  
 स्वागत तोरण  
 स्वागत तोरण 1059.7 ⇨

### स्वागत द्वार

स्वागत तोरण 1059.7  
 स्वागतपूर्वक  
 स्वागतपूर्वक 1059.28 ⇨  
 स्वागत बारात  
 वरयात्रा स्वागत 800.44  
 स्वागत मंडल  
 स्वागत समिति 1059.6  
 स्वागत में आगे बढ़ना  
 अभ्युद्गत होना 1059.24  
 स्वागतम्  
 स्वागत 1059.1  
 स्वागत योग्य  
 स्वागत योग्य 1059.26 ⇨  
 स्वागत सत्कार  
 अभिनंदन समारोह 854.11  
 सत्कार 184.1  
 स्वागत समारोह  
 स्वागत समारोह 1059.2 ⇨  
 स्वागत समिति  
 स्वागत समिति 1059.6 ⇨  
 स्वागत सम्मान  
 अभिनंदन समारोह 854.11  
 स्वागताध्यक्ष  
 स्वागत अधिकारी 1059.3  
 स्वागताभिलाषी  
 दर्शनाभिलाषी 1056.10  
 स्वागतिक  
 स्वागत अधिकारी 1059.3  
 स्वागततेय  
 स्वागत योग्य 1059.26  
 स्वागत्य  
 स्वागत योग्य 1059.26  
 स्वाघरण  
 सच्चरित्रता 810.2  
 स्वार्तत्र्य  
 स्वाधीनता 900.1  
 स्वाति  
 तलवार 924.7  
 नक्षत्र सूची 4.6  
 स्वातिकारी  
 कृषि देवी सूची 774.5  
 स्वातिमुखा  
 नाग स्त्री सूची 778.24  
 स्वाति सुत  
 मोती 97.2  
 स्वाद  
 रुषि 400.1  
 स्वाद 275.1 ⇨  
 स्वाद आनंद  
 स्वाद आनंद 275.8 ⇨  
 स्वाद आनंद लेना  
 स्वाद आनंद लेना 275.12 ⇨  
 स्वाद कलिका  
 स्वाद कलिका 143.8 ⇨  
 स्वादज्ञ  
 स्वादज्ञ 275.18 ⇨

### स्वादन

आस्वादन 275.8  
 स्वाद परीक्षक  
 स्वादज्ञ 275.18  
 स्वाद प्रेम  
 स्वाद लोलुपता 275.9  
 स्वाद प्रेमी  
 स्वाद लोलुप 275.19  
 स्वादयुक्त  
 स्वादयुक्त 275.15 ⇨  
 स्वादयुक्तता  
 स्वादयुक्तता 275.4 ⇨  
 स्वाद लेना  
 स्वाद लेना 275.11 ⇨  
 स्वाद लोलुप  
 स्वाद लोलुप 275.19 ⇨  
 स्वाद लोलुपता  
 स्वाद लोलुपता 275.9 ⇨  
 स्वाद लोलुप होना  
 स्वाद लोलुप होना 275.13 ⇨  
 स्वादघ्न  
 आहार मसाला 281.3  
 स्वादहीन  
 अरोघक 401.10  
 रसहीन 84.18  
 स्वादहीन 275.16 ⇨  
 स्वादहीनता  
 अरोघकता 401.1  
 स्वादहीनता 275.5 ⇨  
 स्वादानुभूति  
 स्वाद 275.1  
 स्वादात्र  
 स्वादिष्ट आहार 197.11  
 स्वादित  
 आस्वादित 275.17  
 स्वादिमा  
 स्वादिष्टता 275.10  
 स्वादिष्ट  
 रोधक 400.12  
 स्वादिष्ट आहार  
 स्वादिष्ट आहार 197.11 ⇨  
 स्वादिष्ट  
 मसालेदार 281.42  
 स्वादिष्ट 275.20 ⇨  
 स्वादिष्टता  
 स्वादयुक्तता 275.4  
 स्वादिष्टता 275.10 ⇨  
 स्वादीय  
 स्वादीय 275.14 ⇨  
 स्वादु  
 मधुआ 190.31  
 स्वादिष्ट 275.20  
 स्वादुपटोल  
 परवल 189.25  
 स्वादुपाका  
 मकोय 190.30  
 स्वादुमूल  
 गाजर 189.14

स्वार्थे द्विय	स्वभाव 836.4	स्वामीय	स्वार्थवादिता
जिह्वा 143 7	स्वाभाविकता 836.5 ⇨	स्वामीय 621.23 ⇨	अवसरवादिता 827.3
स्वाद 275.1	स्वामिमान	स्वामीयुक्त	स्वार्थवादी
स्वार्थे द्विय (जीभ)	स्वामिमान 858.3 ⇨	स्वामीयुक्त 621.24 ⇨	अवसरवादी 827.18
ज्ञानेन्द्रिय सूची 268.6	स्वामिमानपूर्ण	स्वामीहीन	स्वार्थ साधक
स्वादेशिक	उन्नतमस्तक 858 12	स्वामीहीन 621.25 ⇨	स्वार्थ साधक 712.17
स्वदेशीय 34.20	स्वामिमानपूर्णता	स्वार्थभुव	स्वार्थ साधक
स्वाधिकारी	उन्नतमस्तकता 858 4	ब्रह्मा पुत्र सूची 766.10	अवसरवादी 827 18
स्वाधीन 900 7	स्वामिमान प्रदर्शन	स्वार्थभुव मनु 788.6	स्वार्थ साधक 712.17 ⇨
स्वाधीन	दर्प 858 5	स्वार्थभुव मनु	स्वार्थ साधन
स्वच्छे धारितापूर्ण 809.6	स्वामिमानहीन	मनु सूची 788 4	स्वार्थ साधन 712.6 ⇨
स्वाधीन 900.7 ⇨	अस्वामिमानी 859.7	स्वार्थभुव मनु 788.6 ⇨	स्वार्थ साधन करना
स्वेच्छाधारी 809 7	स्वामिमानहीनता	स्वार्थभुव मनु (पूर्व जन्म)	स्वार्थ साधन करना 712.12 ⇨
स्वाधीनता	अस्वामिमान 859 2	दशरथ 770 33	स्वार्थ साधना
उन्मुक्तता 1015 4	स्वामिमानी	स्वार्थभुव मनु: पिता	अवसरवादिता 827.3
स्वाधीनता 900 1 ⇨	स्वामिमानी 858 11 ⇨	ब्रह्मा 766 1	स्वार्थ सिद्धि
स्वेच्छापूर्णता 650 6	स्वामाधिकता	स्वार्थभुवी	सफलता 512.1
स्वाधीनता दिवस	मानव अरघितता 528 3	सरस्वती 775 8	स्वार्थहीन
स्वतंत्रता दिवस 58 12	स्वामिता	स्वाधत्ता	प्रयोजनहीन 509.3
स्वाधीनता संग्राम	ज़मींदारी 553 13	सत्ता हस्तांतरित 902 26	स्वार्थहीन 712.18 ⇨
स्वतंत्रता संग्राम 904 1	स्वामित्व अधिकार	स्वाधीन 900 7	स्वार्थहीनता:
स्वाधीनता संग्राम करना	स्वामित्व अधिकार 621.1 ⇨	स्वाधत्ता	प्रयोजनहीनता: 509.5
स्वतंत्रता संग्राम करना 904 16	स्वामित्व विषयक	स्वाधीनता 900 1	स्वार्थहीनता
स्वाध्याय	स्वामित्वीय 621 22	स्वाधत्ता प्रदान	प्रयोजनहीनता 509 1
अनुशीलन 321 25	स्वामित्वीय	सत्ता विकेंद्रीयकरण 899 7	स्वार्थहीनता 712.7 ⇨
साधना 303 7	स्वामित्वीय 621 22 ⇨	स्वायत्तीकरण	स्वार्थहीन मित्र
स्वानिक	स्वामिनी	सत्ता हस्तांतरण 902.4	निस्वार्थ मित्र 705.10
ध्वनीय 294 19	राधा 771 83	स्वायत्तीकृत	स्वार्थहीन मित्रता
स्वानिक छंद	स्वामी	सत्ता हस्तांतरित 902 26	निस्वार्थ मित्रता 705 9
स्वानिक छंद 452 5 ⇨	ईश्वर 764 1	स्वारथ	स्वार्थहीन मित्र होना
स्वानुभूति	गरुड 777 15	स्वार्थ 712 5	निस्वार्थ मित्र होना 705.20
अहं तत्त्व 351 3	दास स्वामी 651 17	स्वारीषिष मनु	स्वार्थी
स्वानुशासन	देव मूर्ति 746 1	मनु सूची 788.4	इकलखुरा [इकलखुरी] 183.39
सयम 808 8	धर्माचार्य 790 2	स्वाजित	स्वार्थी 712.16 ⇨
स्वानुशासित	पति 803 5	स्वाजित 648.10 ⇨	स्वार्थी (दे.)
संयमित 808 16	प्रधान व्यक्ति 852 4	स्वाजित (संपत्ति)	स्वार्थ साधक 712.17
स्वाभ्रभोजी	प्रवीण व्यक्ति 303 9	अनानुवंशिक 727.40	स्वार्थी मित्र
स्वावलंबी 648 11	भूति भर्ता 650 29	स्वार्थ	सस्वार्थ मित्र 705.8
स्वापक	यहूदी धर्माधिकारी 744 45	आत्महित 712 3	स्वार्थी होना
निद्राकारी 266 14	राजा 882 6	स्वार्थ 712.5 ⇨	स्वार्थपरक होना 712.11
स्वापी	विष्णु 768 1	स्वार्थ (दे.)	स्वालंबितिता
निद्राकारी 266 14	वेतन दाता 643 24	प्रयोजन 508.1	स्वालंबितिता 648.2 ⇨
प्रशामक 372.11	व्यापार अच्यक्ष 657.3	स्वार्थ धितक	स्वालोकन
स्वाप्त	शिव 767 1	स्वार्थी 712.16	स्वतः आलोकन 285.3
प्रत्याशातीत 944 9	संन्यासी 790 11	स्वार्थ टकराव	स्वात्म
स्वाजित 648.10	सत्ताधारी 899 3	हित संघर्ष 905.3	अल्पतम 942.15
स्वाभाविक	स्कंद 773 50	स्वार्थ त्याग	लघु 980.20
अकर्तृक 505.22	स्वामी 621.2 ⇨	स्वार्थ त्याग 712.8 ⇨	स्वावलंबी
अनलंकृत 227 5	स्वामी [स्वामिनी]	स्वार्थ त्यागी	स्वनियोजक 653.34
प्राकृतिक 762.10	स्वामी 621 2	स्वार्थ त्यागी 712 19 ⇨	स्वावलंबी 648.11 ⇨
मानव अरघित 528.9	स्वामी कार्तिक	स्वार्थ पंडित	स्वावलंबी होना
स्वाभाविक 836.11 ⇨	स्कंद 773.50	स्वार्थी 712 18	स्वावलंबी होना 648.6 ⇨
स्वाभाविक अलंकार	स्वामी कुमार	स्वार्थपर	स्वाभयी
अभिनय: अलंकार सूची 464.29	स्कंद 773.50	स्वार्थी 712.16	स्वावलंबी 648.11
स्वाभाविक गुण	स्वामी भक्त	स्वार्थपरकता	स्वास्थिकी
अभिनय: अलंकार 464.28	सत्तानिष्ठ 826.11	इकलखुरापन 183.2	सुजीयिता 170.2
स्वाभाविकता	स्वामी भक्ति	स्वार्थपरक होना	स्वास्थ्य
अनलंकृतता 227.2	सत्ता निष्ठा 826 4 ,	स्वार्थपरक होना 712.11 ⇨	स्वास्थ्य 181.1 ⇨

## स्वास्थ्यकर

### स्वास्थ्यकर

- शक्ति वर्षक 487 23  
सुजीवितापूर्ण 170 11  
स्वास्थ्यप्रद 161.6
- स्वास्थ्य दशा**  
स्वास्थ्य दशा 161.2 ⇨
- स्वास्थ्यप्रद**  
स्वास्थ्यप्रद 161.6 ⇨
- स्वास्थ्यप्रद (दे.)**  
पीष्टिक 179 22
- स्वास्थ्यप्रदता**  
स्वास्थ्यप्रदता 161.4 ⇨
- स्वास्थ्य प्रदान**  
चिकित्सन 171 8
- स्वास्थ्य प्रश्न**  
कुशल प्रश्न 710 7
- स्वास्थ्य लाभ**  
आरोग्य लाभ 171 11
- स्वास्थ्य सदन**  
सैनेटोरियम 175 4
- स्वास्थ्यहर**  
स्वास्थ्यहर 162.6 ⇨
- स्वास्थ्य हरण**  
स्वास्थ्य हरण 162.2 ⇨
- स्वास्थ्यहीनता**  
रोगग्रस्तता 162 1
- स्वास्थ्योन्मुख**  
आरोग्योन्मुख 171 22
- स्वाह**  
दग्ध 108 13  
पूर्ण दग्ध 108 16  
राख 106 15
- स्वाहकरण**  
पूर्ण दहन 108 2
- स्वाहा**  
राख 106 15  
व्याहृति सूची 741.24  
स्वाहा 774.104 ⇨
- स्वाहाकार**  
आहुति दान 753.6
- स्वाहा पति**  
अग्नि 106.1
- स्वाहाभोजी**  
देयता 772 1
- स्विघ**  
स्विघ 1046.12 ⇨  
स्विघ 102.13 ⇨
- स्विघ (अं)**  
स्विघ 1046.12  
स्विघ 102 13
- स्विघन**  
स्विघन 1046 13 ⇨
- स्विभिग (अं)**  
स्विघन 1046 13
- स्विदित**  
द्रवित 80.6
- स्विम**  
द्रवित 80.6

### स्विम सूट (अं)

- स्विभिग कास्ट्यूम 483 8
- स्विभिग (अं)**  
प्रवहन 1041 2
- स्विभिग कास्ट्यूम**  
स्विभिग कास्ट्यूम 483.8 ⇨
- स्विभिग कास्ट्यूम (अं)**  
स्विभिग कास्ट्यूम 483 8
- स्विभिग पूल (अं)**  
तरण ताल 482 23
- स्विभिग सूट (अं)**  
स्विभिग कास्ट्यूम 483 8
- स्विष्ट**  
वरदान 714 1
- स्वीकरण**  
अंगीकरण 1002 3  
पाप प्रायश्चित्त 813 4  
वियाहन 799 6
- स्वीकरणीय**  
स्वीकार्य 337 17
- स्वीकर्ता**  
अपराध स्वीकर्ता 876 28  
स्वीकृति दाता 337 18
- स्वीकार**  
स्वीकृत 337 16  
स्वीकृति 337 1
- स्वीकारक**  
अंगीकारक 1002 24
- स्वीकार करना**  
आदान करना 637 3  
स्वागीकृत करना 1002 17  
स्वीकृति देना 337 10
- स्वीकार न करना**  
न लेना 639 13
- स्वीकारना**  
अंगीकार करना 1002.16  
अपराध स्वीकार करना 876.23  
आदान करना 637 3  
स्वागीकृत करना 1002 17  
स्वीकृति देना 337.10
- स्वीकारात्मक**  
स्वीकारात्मक 337 15 ⇨
- स्वीकारात्मकता**  
स्वीकारात्मकता 337.2 ⇨
- स्वीकारोक्ति**  
अपराध स्वीकृति 876 9  
कनफ्रेशन 751 19
- स्वीकारोक्ति कला**  
कनफ्रेशनल 745 23
- स्वीकार्य**  
स्वीकार्य 337 17 ⇨
- स्वीकार्यता**  
पसंदगी 400 3
- स्वीकृत**  
अंगीकृत 1002.23  
अनुमति दत्त 337.22  
अनुमति प्राप्त 337 23  
पारित 329.27

- सहमति प्राप्त 337 20  
स्वीकृत 337 16 ⇨  
स्वीकृत (अपराध) 876 27
- स्वीकृत (अपराध)**  
स्वीकृत (अपराध) 876.27 ⇨
- स्वीकृति**  
अनुमति 337 5  
अपराध स्वीकृति 876 9  
आस्तिकतावाद 760 13  
पसंदगी 400 3  
सहमति 337 3  
स्वीकृति 337.1 ⇨
- स्वीकृति: उक्ति सूची**  
स्वीकृति उक्ति सूची 337.28 ⇨
- स्वीकृति की मुहर लगाना**  
अनुसमर्थन करना 337 14
- स्वीकृति खंडन**  
मुकरन 338 10
- स्वीकृति खंडन करना**  
मुकरना 338 25
- स्वीकृति खंडन कर्ता**  
मुकरने वाला 338 41
- स्वीकृति चिह्न**  
स्वीकृति चिह्न 407.4 ⇨
- स्वीकृति दाता**  
स्वीकृति दाता 337.18 ⇨
- स्वीकृति देना**  
पुरस्कार देना 857 22  
स्वीकृति देना 337 10 ⇨
- स्वीकृति न देना**  
अस्वीकार करना 338 18
- स्वीट**  
स्वीट 602.29 ⇨
- स्वीट (अं)**  
स्वीट 602 29
- स्वीप**  
स्वीप 478.19 ⇨
- स्वीप (अं)**  
स्वीप 478 19
- स्वीय**  
निजी (सपत्ति) 624 16  
मेरा [मेरी] 316 27  
वैयक्तिक 889 3
- स्वीया**  
स्वकीया नायिका 456 16
- स्वेच्छया**  
स्वेच्छापूर्वक 650 30
- स्वेच्छया सेवक**  
सहयोग समर्पक 700.21
- स्वेच्छाघार**  
निरकुश तंत्र 881.22  
स्वेच्छाघार 809.1 ⇨
- स्वेच्छाचारिणी**  
व्यभिचारिणी 806.11
- स्वेच्छाचारिता:**  
स्वेच्छाचारिता: 809.11 ⇨
- स्वेच्छाचारिता**  
तानाशाही 884 2

- निरकुश तंत्र 881 22  
स्वेच्छाघार 809 1  
हेकड़ी 734 10
- स्वेच्छाचारिता करना**  
हेकड़ी चलाना 734 13
- स्वेच्छाचारितापूर्ण**  
स्वच्छे चारितापूर्ण 809 6
- स्वेच्छाचारिता पूर्वक**  
स्वेच्छाचारिता: 809.11
- स्वेच्छाघारी**  
इच्छागामी 1091 11  
निरकुश 881 40  
व्यभिचारी 806 10  
स्वेच्छाघारी 809.7 ⇨  
स्वेच्छित कर्मी 650 22  
हेकड़ीबाज़ 734 23
- स्वेच्छात्मक**  
स्वच्छे चारितापूर्ण 809 6
- स्वेच्छानुकूल कर्म**  
स्वेच्छित कर्म 650 7
- स्वेच्छानुकूलता:**  
स्वेच्छापूर्वक 650 30
- स्वेच्छापूर्णता**  
स्वेच्छापूर्णता 650 6 ⇨
- स्वेच्छापूर्वक**  
स्वेच्छापूर्वक 650 30 ⇨
- स्वेच्छामृत्यु**  
भीष्म 771 77
- स्वेच्छार्थ**  
स्वेच्छार्थ 650 23 ⇨
- स्वेच्छाहीनता:**  
पराधीनता 901.12
- स्वेच्छित**  
स्वेच्छित 650 21 ⇨
- स्वेच्छित कर्म**  
स्वेच्छित कर्म 650.7 ⇨
- स्वेच्छित कर्म क्षमता**  
स्वेच्छापूर्णता 650.6
- स्वेच्छित कर्मी**  
स्वेच्छित कर्मी 650.22 ⇨
- स्वेटर बुनावट**  
स्वेटर बुनावट 576 10 ⇨
- स्वेटर सलाई**  
स्वेटर सलाई 562.19 ⇨
- स्वेड**  
स्वेड 582.16 ⇨
- स्वेड (अं)**  
स्वेड 582 16
- स्वेद**  
देह मल सूची 215.2  
स्वेद 215.3 ⇨
- स्वेद आना**  
पसीना आना 215.30
- स्वेदन**  
आसवन 82.1  
पारा शोधन 219.5  
प्रस्वेदन 215.4

स्वेदन यंत्र  
आसवन उपकरण 82.4  
स्वेदनिका  
देगयी 682 11  
स्वेदमय  
स्वेदित 215 31  
स्वेद रंध  
त्वचा रन्ध्र सूची 134 5  
स्वेदांशु  
स्वेद 215 3  
स्वेदित  
स्वेदित 215 31 ⇨  
स्वेदी  
स्वेदित 215.31  
स्वेच्छिक  
स्वेच्छित 650 21  
स्वेटर  
स्वेटर 585 62 ⇨  
स्वेटर (अँ)  
स्वेटर 585 62  
स्वीर  
हेकडीबाज़ 734 23  
स्वीरगत  
इच्छागामी 1091 11  
स्वीरतः  
स्वेच्छाधारित 809 11  
स्वीरता  
स्वेच्छापूर्णता 650 6  
स्वीर युति  
स्वेच्छापूर्णता 650 6  
स्वीराधार  
तानाशाही 884 2  
निरकुश तंत्र 881 22  
स्वेच्छाधार 809 1  
हेकडी 734 10  
स्वीराधारी  
इच्छागामी 1091 11  
निरकुश 881 40  
व्यभिचारी 806 10  
स्वेच्छाधारी 809 7  
स्वेच्छित कर्मी 650 22  
स्वीरिणी  
व्यभिचारिणी 806 11  
स्वीरिता  
स्वेच्छाधार 809 1  
स्वेच्छापूर्णता 650 6  
स्वीरी  
व्यभिचारी 806 10  
स्वोत्थ  
मानव अरधित 528.9  
स्वोपजीविता  
स्वालंबतितता 648 2  
स्वोपजीवी  
स्वालंबी 648 11  
स्वोपार्जक  
स्वनिर्णयक 653.34  
स्वोपार्जित  
स्वार्जित 648.10

स्वोर्ध आक आनर (अँ)  
सम्मान तलवार 857 19

ह

हक  
तलकार 373 14  
हँकाई 1079 11  
हकड़ना  
धिल्लाना 373 22  
हकड़ाव  
पशु घालन 1082 12  
हँकाई 1079 11  
हँकरना  
धिल्लाना 373 22  
हँकराव  
पशु घालन 1082 12  
हँकाई 1079 1,  
हँका 252 5  
हँकरावा  
पशु घालन 1082 12  
तलकार 373 14  
हँकाई 1079.11  
हँका 252 5  
हँकवा  
हँका 252 5  
हँकवैया  
जोत यान चालक 1079 4  
हँका  
आवाहन 1055 1  
उत्प्रेरण 499 2  
तलकार 373 14  
हँकाई 1079 11  
हँका [हँकी]  
हँका [हँकी] 1079 24 ⇨  
हँकाई  
जोत यान चालन 1079 3  
हँकाई 1079 11 ⇨  
हँकाई (दे.)  
पशु घालन 1082 12  
हँकाना  
निकाल भगाना 1092 14  
हँकाया [हँकाई]  
हँका [हँकी] 1079 24  
हँकार  
आवाहन 1055 1  
जोत यान चालन 1079 3  
हँकारना  
आवाहन करना 1055 7  
पशु वेग बकाना 1043 12  
तलकारना 373.27  
हँकना 1079.19  
हँकारा  
आवाहन 1055 1  
पशु घालन 1082 12  
हँकाई 1079.11  
हँकाल  
हँकाई 1079.11

हँकिया  
पशु चालक 1082 13  
हँकने वाला 1079.25  
हँके वाला 252 32  
हँकेला [हँकेली]  
हँका [हँकी] 1079 24  
हँकिया  
पशु चालक 1082 13  
हँगामा  
उत्सवपूर्णता 56 2  
उपद्रव 903 1  
कोलाहल 294 8  
हुल्लड 294 14  
हँगामेदार  
कोलाहलपूर्ण 294 30  
हँगार  
हँगार 1069 32  
हँगारना  
अपराध स्वीकार करना 876 23  
हँजा  
दासी 651 10  
परिचारिका 651 29  
हजिका  
दासी 651 10  
हँटर (अँ)  
घामुक 555 23  
हँडना  
आवागारदी करना 1090 39  
खोज में भटकना 336 18  
लुडकना 1031 18  
हँडा  
गैसलाइट 285 7  
टोकना 679.31  
धातु ंट 679 6  
बड़ा प्रका 679 3  
लैप ग्लोब 285 26  
हँडिका  
हँडिया 679 21  
हँडिया  
टोकनी 679 32  
पाक थंड सूची 682 2  
हँडिया 679.21 ⇨  
हँडिया: बकन  
घपनी 675 9  
हँडी  
हँडिया 679 21  
हँडूडवेट  
हँडूडवेट 962.57 ⇨  
हँडूडवेट (अँ)  
हँडूडवेट 962 57  
हँत  
मारा [मारी] 251.23  
हत 249.25 ⇨  
हँतव्य  
हतव्य 251.21 ⇨  
हँता  
मारने वाला 251.26

हँकाई  
हँफ 245 14  
हँबा  
रंभाहट 298 27  
हँभा  
रंभाहट 298 27  
हँस  
आत्मा 763 1  
ईर्ष्याहीन 709 7  
उत्तम 313.13  
घोड़ा 127 35  
जलपक्षी सूची 126 7  
धर्म दीक्षक 742.26  
धर्माचार्य 790.2  
बतख 126 56  
ब्रह्म 764.24  
ब्रह्मा 768 1  
ब्रह्मा पुत्र भूची 766.10  
ब्रह्मा वाहन 766 16  
भार वाहक बैल 127 15  
विष्णु 768 1  
विष्णु चौबीस अवतार सूची 769 9  
सूर्य 8 1  
हँस 126.76 ⇨  
हँस उड़ान  
दल उड़ान 1081.15  
हँसक  
हँस 126 76  
हँस काला  
मादा हँस 126 77  
हँसकूट  
सॉड बैल कूब 147 10  
हँस गति  
शिष्य 767 1  
हँसगामिता 1084 5  
हँस गमन  
हँसगामिता 1084 5  
हँसगमन [हँसगमना]  
हँसगामी [हँसगामिनी] 1084.45  
हँसगामिता  
हँसगामिता 1084.5 ⇨  
हँसगामिनी  
ब्रह्मणी 774.58  
सरस्वती 775.8  
हँसगामी [हँसगामिनी]  
हँसगामी [हँसगामिनी] 1084.45 ⇨  
हँसघुड  
यक्ष सूची 779.3  
हँसता [हँसती]  
हासरील 384 13  
हँसते हँसते  
सहजतः 518.24  
हँसत्व  
मोक्ष 257.1  
हँस देह  
सूक्ष्म शरीर 139.2  
हँसना  
उपहास करना 844.6

## हंसपदी

प्रसन्न होना 381.4  
 व्यंग्य करना 844.10  
 हंसना 384.7 ⇨  
 हंसपदी  
 अप्सरा सूची 782.3  
 हंसमुख  
 अलमस्त 382.23  
 प्रसन्नचित्त 837.16  
 बहिरभिमुखी 837.15  
 विनोदी 385.13  
 हंसमुखता  
 प्रसन्नचित्तता 837.7  
 हंसराज  
 राजहंस 126.78  
 हंसली  
 हंसली 133.11 ⇨  
 हंसली 228.25 ⇨  
 हंस लोहक  
 पीतल 94.10  
 हंसबाहन  
 ब्रह्मा 766.1  
 हंसांशु  
 अति श्वेत 289.67  
 श्वेत 289.65  
 हंसा  
 राजहंस 126.78  
 हंस 126.76  
 हंसाई  
 उपहास 844.1  
 निदा 843.1  
 व्यंग्य 844.5  
 हंसिका  
 मादा हंस 126.77  
 हंसिनी  
 मादा हंस 126.77  
 हंसगाभिता 1084.5  
 हंसिया  
 दरौती 581.10  
 हंसिया 583.7 ⇨  
 हंसी  
 उपहास 844.1  
 निदा 843.1  
 हंसी  
 मादा हंस 126.77  
 हंसी  
 व्यंग्य 844.5  
 हास 384.1  
 हंसी उराना  
 उपहास करना 844.6  
 व्यंग्य करना 844.10  
 हंसी सुरी  
 आनंदपूर्णता 382.2  
 आनंद मंगल 382.3  
 हंसी खेल  
 मनोरंजन 469.1  
 सहज कार्य 518.2  
 हंसी छद्म  
 विनोद 385.1

हंसी ठिठोली  
 विनोद 385.1  
 हंसीदार  
 हास्यप्रद 384.14  
 हंसी मज़ाक  
 नोकझोंक 385.8  
 विनोद 385.1  
 हंसी में  
 क्रीड़ापूर्वक 469.17  
 विनोदपूर्वक 385.15  
 हंसी में खंसी  
 आनंद भंग 383.3  
 हंसी में खंसी होना  
 आनंद भंग होना 383.6  
 हंसी हंसी में  
 विनोदपूर्वक 385.15  
 हंसुली  
 हंसली 133.11  
 हंसोक  
 बहिरभिमुखी 837.15  
 विदूषक 467.19  
 विदूषकतापूर्ण 837.17  
 विनोदी 385.13  
 हंसोक्कपन  
 बहिरभिमुखता 837.6  
 हंसोक्कपन  
 विदूषकता 837.8  
 विनोद प्रेम 385.2  
 हंसोका [हंसोकी]  
 बहिरभिमुखी 837.15  
 विदूषकतापूर्ण 837.17  
 विनोदी 385.13  
 हंसोही [हंसोही]  
 हास्यप्रद 384.14  
 -ह  
 मारक 251.24  
 हई  
 आश्चर्य 379.1  
 हाय 386.12  
 हक  
 अधिकार 897.1  
 अल्लाह 764.12  
 आदेयता 634.13  
 उत्तराधिकार 623.1  
 दलान शुल्क 659.5  
 नेग 640.7  
 सत्या 820.2  
 हक तकाफ़ा  
 अधिकार दावा 897.5  
 हकदार  
 अधिकार दावेदार 897.18  
 अधिकार भागी 897.18  
 उत्तराधिकारी 623.2  
 सुपात्र 303.15  
 हक नाहक  
 प्रयोजनहीनतः 509.5  
 हकपरस्त  
 सत्यनिष्ठ 820.21

हकपरस्ती  
 ईश्वर पूजा 751.4  
 सत्य निष्ठा 820.9  
 हकबक  
 वाचारुद्ध 429.27  
 हकबकाना  
 आश्चर्य होना 379.5  
 निरुत्तर होना 335.7  
 हकलाना  
 अस्पष्ट उच्चारण करना 299.19  
 हकलापन  
 हकलाहट 299.18  
 हकलाहट  
 हकलाहट 299.18 ⇨  
 हक़ारत  
 घृणा 370.2  
 हकार वर्ण  
 महाप्राण वर्ण 411.14  
 हकालना  
 निकाल भगाना 1092.14  
 हक़ीक़त  
 तथ्य 820.14  
 वर्तमान परिस्थिति 69.6  
 यास्तविकता 820.13  
 सत्य 820.1  
 सत्यता 820.2  
 हक़ीक़ी  
 ईश्वर कृत 764.36  
 खरा [खरी] 98.12  
 प्रेरणाजन्य 499.7  
 यास्तविक 820.23  
 वैध 716.19  
 सत्यतापूर्ण 820.20  
 हकीकी  
 सहोदर 723.27  
 हक़ीक़ी  
 स्वाभाविक 836.11  
 हकीम  
 चिकित्सक 171.13  
 विद्वान व्यक्ति 319.2  
 हकीम 172.11 ⇨  
 हकीमी  
 चिकित्सा 171.1  
 हकीमी 172.10 ⇨  
 हक्काक  
 जड़िया 566.3  
 मुहर निर्माता 414.26  
 हक्कानी  
 इसलामी पूजा गीत सूची 749.27  
 हक्का बक्का [हक्का बक्की]  
 वाचारुद्ध 429.27  
 हक्का बक्का [हक्की बक्की]  
 आश्चर्यित 379.8  
 हक्क  
 दक्का 1051.18  
 हक्कना  
 लक्कना मटकना 1084.41

हक्कना मक्कना  
 लक्कना मटकना 1084.41  
 हक्क मक्क  
 लक्क मटक 1084.20  
 हक्का  
 तुमका 1084.9  
 दक्का 1051.18  
 हक्कोला 1037.11  
 हक्कोला  
 हक्कोला 1037.11 ⇨  
 हज  
 हज यात्रा 1089.7  
 हज करने वाला  
 हाजी 1089.9  
 हज़म  
 गबन 865.7  
 पधित 178.5  
 हज यात्रा  
 हज यात्रा 1089.7 ⇨  
 हज़रत  
 इसलामी साधु 790.23  
 नटखट 860.27  
 पत्राक्ष. संबेदन आदि सूची 444.41  
 पैगबर 791.1  
 महापुरुष 839.3  
 मुहम्मद 791.20  
 सूफी सत 790.10  
 हज़रत अली  
 अली 791.5  
 पजतन सूची 791.17  
 हज़रत अली: तलवार  
 हज़रत अली तलवार 924.10 ⇨  
 हज़रत आदम  
 आदम 791.6  
 आदम 236.15  
 हज़रत ईसा  
 ईसा 791.8  
 हज़रत उसमान  
 उसमान 791.13  
 हज़रत फ़ातिमा  
 पंजतन सूची 791.17  
 हज़रत मुहम्मद  
 पंजतन सूची 791.17  
 मुहम्मद 791.20  
 हज़रत मुसा  
 मुसा 791.23  
 हज़ल  
 हज़ल 450.31 ⇨  
 हज़ाम  
 क्षीर कर्म 224.2  
 हज़ामगीरी  
 क्षीर कर्म 224.1  
 हज़ामत  
 केश कर्तन 224.3  
 क्षीर कर्म 224.1  
 ठगी 864.31  
 शोब 224.8



हजामत करना  
क्षीर कर्म करना 224.11  
हजामत बनाना  
क्षीर कर्म करना 224.11  
हज़ार  
हज़ार 948.72 ⇨  
हज़ार: स्थान 948.11  
हज़ार: उपमान सूची  
हज़ार उपमान सूची 948.73 ⇨  
हज़ारगुना  
हज़ारगुना 949.50 ⇨  
हज़ारगुना [हज़ारगुनी]  
हज़ारगुना 949.50  
हज़ार तरह  
विधिघत 310.11  
हज़ारबी [हज़ारबी]  
हज़ारबी [हज़ारबी] 948.105 ⇨  
हज़ार: समुदाय  
हज़ार समुदाय 687.23 ⇨  
हज़ार साल  
सहस्राब्दी 42.26  
हज़ार: स्थान  
हज़ार: स्थान 948.11 ⇨  
हज़ारहा  
अनेकदा 73.6  
विधिघत: 310.11  
हज़ारा  
उपवन पुष्प सूची 14.2  
सिंघन फुहारा 1032.12  
हज़ारी  
गेंदा 14.14  
हज़ार समुदाय 687.23  
हज़ारी बज़ारी  
लायारिस (जानवर) 127.97  
हज़ो  
कटाक्ष 844.3  
निंदा 843.1  
परिजल्प 435.12  
हज़्ज  
दृढ प्रतिज्ञा 339.18  
हज़ यात्रा 1089.7  
हज़्जाम  
क्षीर कर्मी 224.2  
हज़्जामी  
क्षीर कर्म 224.1  
हज़्जे अकबर  
शुक्रवार: हज़ यात्रा 1089.8  
हज़्म करना  
गोपन करना 824.14  
हज़क  
क्वार्टर पिन 417.7  
निषेध 880.1  
हैंकाई 1079.11  
हज़कन  
कमघी 923.1  
हज़कना  
अनुमति न देना 338.19  
निषिद्ध करना 880.6

हॉकना 1079.19  
हट कर  
अतिरिक्त 945.7  
असदृश 310.6  
हटका  
क्वार्टर पिन 417.7  
हटन  
पीछे हटना कर्म 916.6  
विस्थापन 1036.3  
विस्थापना 1036.2  
सिकुड़न 980.10  
हटना  
पीछे हटन 916.15  
मुकरना 338.25  
वधन तोड़ना 338.30  
विस्थापित होना 1036.11  
सरकना 1084.43  
स्थान परिवर्तन करना 1036.9  
हटना 32.6 ⇨  
हटबया  
पटरी बाला 661.13  
हटवाई  
दुकानदारी 661.10  
हटवार  
दुकानदार 661.11  
विस्थापक 1036.14  
हटवैया  
विस्थापक 1036.14  
हटा [हटी]  
ध्युत 653.36  
विस्थापित 1036.13  
हटा [हटी] 32.9 ⇨  
हटाई  
अपनयन 1053.3  
निवारण 920.4  
निष्कासन 1092.10  
विस्थापन 1036.4  
हटाना  
घटाना करना 954.12  
ध्युत करना 653.27  
दूर करना 32.5  
निरस्त करना 338.24  
निवारण करना 920.14  
पोंछना 218.30  
विलग करना 1011.4  
विस्थापित करना 1036.12  
हटाने बाला  
निवारक 920.18  
विस्थापक 1036.14  
हटापन  
हटापन 32.3 ⇨  
हटाया [हटाई]  
अपनीत 1053.13  
हटाव  
विस्थापना 1036.2  
हटुई  
दुकानदारी 661.10

हटुवा  
दुकानदार 661.11  
हटैती  
क्रीत सामान 660.4  
सामान 666.3  
सौदा 658.3  
हटैती  
अस्थि पंजर 133.5  
हट्ट  
दुकान 662.1  
बाज़ार 663.1  
साप्ताहिक बाज़ार 663.7  
हट्ट बिलासिनी  
देश्या 807.5  
हट्टा  
महल्ला 619.6  
हट्टा कट्टा [हट्टी कट्टी]  
बलिष्ठ 160.10  
हट्टी  
महल्ला 619.6  
हठ  
आग्रह 349.1  
दुराग्रह 349.2  
दृढ प्रतिज्ञा 339.18  
प्रतिज्ञा 339.17  
बल प्रयोग 487.5  
मान कलह 374.4  
सकल्प 500.1  
हठ 349.4 ⇨  
हठमतता 343.3  
हठ करना  
हठ करना 349.9 ⇨  
हठ कर्ता  
हठी 549.14  
हठ कायुक  
बलात्कारी 237.20  
हठधर्मिता  
हठीलापन 349.5  
हठधर्मी  
कठमूलना 343.22  
हठीलापन: 349.5  
हठपूर्वक  
हठपूर्वक 349.15 ⇨  
हठमलता  
हठमलता 343.3 ⇨  
हठमलपूर्ण  
हठमलपूर्ण 343.14 ⇨  
हठ मति  
हठमलता 343.3  
हठमति  
हठमलपूर्ण 343.14  
हठयोग  
हठयोग 756.11 ⇨  
हठवश  
हठपूर्वक 349.15  
हठ विद्या  
हठयोग 756.11

हठ संभोग  
बलात्कार 237.11  
हठाल  
अकस्मात् 69.13  
बलपूर्वक 487.31  
हठी  
हठमलपूर्ण 343.14  
हठी 349.14 ⇨  
हठीला  
योद्धा 934.15  
हठीला [हठीली]  
प्रतिरोधी 915.11  
वीर 396.6  
हठी 349.14  
हठीलापन  
हठीलापन 349.5 ⇨  
हठोन्मत्त  
हठी 349.14  
हठोन्माद  
हठीलापन 349.5  
हड़  
हड़ 281.37 ⇨  
हड़कंप  
कांति विस्फोट 903.8  
भागदोड़ 1084.16  
हड़क  
आतुरता 496.3  
श्वानोन्माद 354.13  
हड़कना  
आतुर होना 496.7  
आसक्त होना 365.3  
बहुत प्यासा होना 180.12  
लुब्ध होना 359.15  
विचलित होना 501.7  
हड़का  
लालसा 359.5  
हड़का [हड़की]  
आतुर 496.11  
लालसी 359.29  
हड़काना  
उकसाना 499.6  
घलता करना 1092.13  
लुब्ध करना 359.16  
विस्थापित करना 1036.12  
हड़ताल  
हड़ताल 902.11 ⇨  
हड़ताल करना  
हड़ताल करना 902.23 ⇨  
हड़ताल पर जाना  
हड़ताल करना 902.23  
हड़तालिया  
हड़ताली 902.31  
हड़ताली  
हड़ताली 902.31 ⇨  
हड़प  
गणन 865.7  
चीर्य वृत्ति 884.1  
पूर्ण मक्षण 181.11

## हड़प जाना

बेईमानी 816 2  
हड़प जाना  
पुरा खा जाना 181 34  
हड़पना  
अधिग्रहण करना 635 10  
पुरा खा जाना 181 34  
सपोटना 181 48  
हड़पू  
अत्याहारी 182 15  
अधिग्रहणशील 635 18  
पूर्ण भक्षक 181 54  
सपोटने वाला 181.61  
हड़पूपन  
अधिग्रहणशीलता 635 2  
हड़बक  
हड़बकी 496 5  
हड़बकाना  
उद्दिग्न होना 377.7  
हड़बकाना 496 8 ⇨  
हड़बकाहट  
हड़बकी 496 5  
हड़बकी  
उद्दिग्नता 377.4  
हड़बकी 496.5 ⇨  
हड़बीग  
हुल्लड 294 14  
हड़बाल  
अस्थि पंजर 133.5  
हड़ियल  
अस्थियुक्त 133 21  
मांसहीन 132.19  
हड़लीला [हड़लीली]  
अति क्षीणकाय 159 14  
मांसहीन 132.19  
हड़लीती  
अस्थि पंजर 133.5  
हड़िडवी निकल आना  
क्षीणकाय होना 159.7  
हड़की  
अस्थि 133.1  
हड़की  
वंश 727 1  
वशाजता 727 23  
हड़की उत्तरना: क्रिया  
अस्थि विस्थापना 168 4  
हड़की का विश्वास  
जनन संबंध 716 1  
हड़की पत्तली  
अस्थि पंजर 133 5  
हड़त  
गुणित 949.42  
गुणित 955 23  
नष्ट 531 7  
पिटा [पिटी] 918.34  
प्रहारित 918.30  
मास [मासी] 251 23  
मृत 249.23  
हड़त 249.25

हताश 376.6  
हत्या कृत 251 22  
हतक  
अधम जन 840 2  
मानहानि 855 3  
हतक इज्जत  
मानहानि 855 3  
हतक इज्जती  
मानहानि 855 3  
हत करना  
मारना 251 18  
हतकुल  
वशानष्ट 727.42  
हतधेतन  
मूर्च्छित 264 23  
हतधेष्टता  
मूर्च्छा 264 5  
हतदेव  
दुर्भाग्यशाली 260 34  
हतना  
मारना 251.18  
हतपाप  
पापनष्ट 813 10  
हतप्रभ  
गौरवहीन 850 6  
निरुत्तर 335.10  
हतप्रमाद  
उद्बोधित 499 10  
हतबीज  
अफलित 118.17  
हतबुद्धि  
भ्रष्टधी 302.10  
हतभाग  
दुर्भाग्यशाली 260.34  
हतभाग्य  
कंगाल 627.21  
दुर्भाग्यशाली 260.34  
हतभाग्यता  
दुर्भाग्य 260.18  
हतमान  
अपमानित 855 11  
हतमानस  
चेतनाहृत 264 21  
हतवंश  
वशानष्ट 727 42  
हतवीर्य  
नपुंसक 238.18  
हतवीर्य  
लज्जाहीन 846 8  
हतराक्ति  
शक्तिनष्ट 488 12  
हतशेष  
मृतप्राय 249.29  
हतभद्र  
श्रद्धाहीन 341.8  
हतश्री  
दुर्भाग्यशाली 260.34  
शोभाहीन 226 12

हतस्मृति  
स्मृतिनष्ट 357 10  
हतहृदय  
भग्नहृदय 391 33  
हत होना  
हत होना 249 19 ⇨  
हतात्मा  
अधम पुरुष 840 3  
दुर्जन 818.5  
हतावर  
अपमानित 855.11  
हताभ  
आलोकहृत 286.15  
हताश  
उत्साहहीन 492 13  
हताश 376.6 ⇨  
हताशा होना  
हताशा होना 376.4 ⇨  
हताशा  
उत्साह भग 492 2  
हताशा 376.2 ⇨  
हताश्रय  
अवलंबनहीन 649 10  
साधनहीन 558 20  
हति  
अकल्याण 711 1  
अपकार 831.4  
अहित 712 2  
अहित 168 1  
दुर्घटना मृत्यु 249 6  
रत्न दोष 98.2  
हतेन्द्रिय  
चेतनाहृत 264 21  
हतोत्तर  
निरुत्तर 335.10  
हतोत्साहित  
उत्साहहीन 492.13  
हतोत्साहित करना  
ताली पीटना 296 24  
हतोत्साहित होना  
उत्साह भग होना 492 8  
हतीज  
शोभाहीन 226.12  
हतीजा  
गौरवहीन 850 6  
नपुंसक 238.18  
हत्या  
आधार सूची 596 2  
बरतन: हत्या 880.29  
सिंघन: फुहारा 1032 12  
हथेली छाप 414 10  
हस्ताभय 596.23  
हत्या: छिद्र  
हत्या: छिद्र 271.8 ⇨  
हथी  
तमाघा 918.16  
हथेली कवच 921.11

हथेदार टोकरी  
हथेदार टोकरी 677.7 ⇨  
हत्या  
मारकाट 905.25  
मारण 251 1  
सकटप्रद वस्तु 909.8  
हत्या 251.5 ⇨  
हत्या (दे.)  
मानव घात 251.10  
हत्या इच्छुक  
मारणेच्छुक 251.25  
हत्या उपकरण  
हत्या उपकरण 251.7 ⇨  
हत्या करना  
मारना 251 18  
हत्या कर्ता  
हत्या कर्ता 251 29 ⇨  
हत्याकांड  
हत्या 251 5  
हत्या कृत  
हत्या कृत 251.22 ⇨  
हत्या: घटना  
हत्या 251 5  
हत्या न करना  
हत्या न करना 250.13 ⇨  
हत्यारा [हत्यारिन]  
हत्या कर्ता 251 29  
हत्यारा [हत्यारी]  
मारने वाला 251 26  
हत्या कर्ता 251.29  
हत्या लुटपाट  
क्रुत्तो गारत 905 26  
हत्यास्त्र  
हत्या उपकरण 251 7  
हत्या स्थल  
हत्या स्थल 251 6 ⇨  
हत्योन्माद  
रणोन्माद 354.9  
हथउधार  
रोकड उचत 630.10  
हथकंडा  
कूट युक्ति 819 8  
यकमा 819.9  
षड्यंत्र 827 8  
हाथ की सफाई 473.28  
हथकडी  
हथकडी 868.28 ⇨  
हथकडीबंद  
हथकडीबंद 868.40 ⇨  
हथकरघा  
हथकरघा 562.16 ⇨  
हथकल  
ताना: कंधी 562.17  
पेचकरा 559.23  
हथकुडी  
घोंपाकल 19.16  
हथगोला  
हैंड ग्रेनेड 927.14

**हथघुट**

प्रहारशील 918 32

**हथछोक**

प्रहारशील 918 32

**हथनी**

मादा हाथी 127 39

**हथफेर**

उठाईगीरी 864 10

हाथ की सफ़ाई 473 28

**हथलपक**

अधिग्रहणशील 635 18

**हथलपका**

उठाईगीर 864 11

**हथली**

घरखा हत्था 596 26

**हथवौस**

कर्ण 1073 2

घण्टू 1073 6

**हथा**

हथेली छाप 414 10

**हथिनी**

मादा हाथी 127 39

**हथियाना**

अधिग्रहण करना 635 10

आधिपत्य करना 899 19

**हथियाने वाला**

अधिग्रहण कर्ता 635 17

**हथियाया [हथियाई]**

अधिग्रहीत 635 16

**हथियार**

आयुध 922 1

उपकरण 558 7

शस्त्र 922 2

**हथियार उतारना**

अशस्त्रीकरण करना 906 12

**हथियार घर**

शस्त्रागार 929 3

**हथियार छीनना**

अशस्त्रीकरण करना 906 12

**हथियार डालना**

युद्ध समर्पण करना 916 17

**हथियारबंद**

शस्त्रधारी 930 6

शस्त्रीकृत 907 45

**हथियारबंदी**

शस्त्रीकरण 907 7

**हथियार बनाना**

शस्त्र बनाना 929 7

**हथियार मैजाई**

शस्त्र मार्जन 929 6

**हथियार मौजना**

शस्त्र मार्जन करना 929 8

**हथियार लेना**

शस्त्र धारण करना 930.4

**हथेली**

अंजलि पात्र 150 3

पाणि 150.1

पाणि पेट 150.2

भिक्षा भांड सूची 642 12

**हथेली कवच**

हथेली कवच 921 11 ⇨

**हथेली छाप**

हथेली छाप 411 10 ⇨

**हथेलीत्राण**

हथेली कवच 921 11

**हथेली पर चलना**

मोरघाल चलना 1084 38

**हथेली: फैलाव**

बालिशत 150 5

**हथैला**

चक्का हत्था 596 25

**हथोका**

हथोका 559 39

**हथोटी**

प्रवीणता 303 8

हाथ की सफ़ाई 473 28

**हथोटी जमना**

अभ्यस्त होना 303 12

**हथोका**

हथोका 559 39 ⇨

**हथोकी**

हथोकी 559 41 ⇨

**हद**

अत्यधिकता 944 2

छोर 1000 3

नियत काल 39 1

पराकाष्ठा 534 3

मर्यादा 808 5

सीमा 1001 1

**हद खीचना**

सीमाकन करना 1001 31

**हद दर्जे का**

पराकाष्ठात्मक 534 13

**हदबंद**

क्षेत्रांकित 1001 39

**हदबंदी**

क्षेत्रांकन 1001 14

सीमाकन 1001 13

**हद बनाना**

सीमाकन करना 1001 31

**हद से गुजरना**

सीमातिक्रमण करना 1001 32

**हद से ज़्यादा**

असंख्य 944 8

**हदीस**

इतिहास 76 1

इस्लामी परंपरा 795 7

कथा कृति 450 3

धर्म आदेश 742 7

धर्म विधि 747 3

परामर्श 332.1

वृत्तान्त 449 14

सीख 332 6

सुझाव 332 5

**हनन**

गढ़ाई 1016 4

गुणन कर्म 955 1

ठोक 1051 15

मारण 251 1

वध 251 3

**हनना**

कूटना 540 9

प्रहार करना 918 21

मारना 251 18

वध करना 251 19

**हनफ़ी**

हनफ़ी 736 14 ⇨

**हनीमून (अँ)**

मधुमास 800 34

**हुनु**

ऊपर का जबड़ा अस्थि 133 9

ऊपरी जबड़ा 140 18

जबड़ा 140 17

**हनुमंत**

हनुमान 781 19

**हनुमंती कुश्ती**

हनुमंती कुश्ती 486 11 ⇨

**हनुमत**

हनुमान 781 19

**हनुमान**

वानर सूची 781 7

हनुमान 781 19 ⇨

**हनुमान: पिता**

केसरी 781 9

**हनुमान: माता**

अंजना 781 20

**हनुमानव**

अधिवानर 127 90

**हनुवंत**

हनुम 781 19

**हुनु**

ऊपर का जबड़ा अस्थि 133 9

ऊपरी जबड़ा 140 18

जबड़ा 140 17

**हुनु अस्थि**

ऊपर का जबड़ा अस्थि 133 9

**हनुमान**

हनुमान 781 19

**हनुष**

असुर 783 6

राक्षस 784 1

**हन्य**

हतव्य 251 21

**हप**

पूर्ण भक्षण 181 11

**हप्पा**

प्रास 181 26

**हफ़ीज़**

अल्लाह 764 12

**हफ़्त**

सात 948 29

**हफ़्ता**

सप्ताह 46.1

**हफ़्ताधारी**

साप्ताहिक 46.17

**हफ़्ते का**

साप्ताहिक 46.17

**हब (अँ)**

पहिया नाभि 1077 4

**हब रिंग (अँ)**

नाभि छल्ला 1077 5

**हबीब**

पुरुष मित्र 705.2

प्रेमपात्र 369 4

**हबीबा**

प्रेमपात्रा 369 5

**हब्बा**

रत्ती 962 53

**हब्स**

नमीदार गरमी 53 9

बदीकृतता 868 5

**हम-**

अनेतर 945.6

सदृश 309 20

समकोटीय 936.11

**हम**

समाकार 978.4

**हम-**

सहित. उपसर्ग सूची 1006 4

**हम**

हम 316 21 ⇨

**हमउन्न**

समवयस्क 229 24

**हमउत्री**

समवयस्कता 229 14

**हम को**

हमें 316 39

**हमक़ौम**

सजातीय 730 21

**हमज़िस**

समकोटीय 936 11

समव्यवसायी 650 27

**हमजुलक**

साकू 724 43

**हमजोलिन**

बाल सखी 705 13

**हमजोली**

जोड़ीदार 687.24

पुरुष मित्र 705.2

बाल मित्र 705.12

**हमदर्द**

सहानुभूति कर्ता 393.19

**हमदर्दी**

सहानुभूति 393.3

**हमबस्तर**

सहभोजी 183.38

**हमन**

हम 316 21

**हमनशीन**

सहनिवासी 616 14

## हमनशीनी

**हमनशीनी**  
सहनिवास 618.3  
**हमनाम**  
सहनामी 315.16  
**हमनामी**  
सहनामता 315 11  
**हमनिवाला**  
सहमोजी 183.38  
**हमपत्खा**  
समान (प्रतियोगी) 707 10  
**हमपेशा**  
समव्यवसायी 650.27  
**हमप्याला**  
सहमोजी 183.38  
**हम भाव**  
सामूहिकता 690.2  
**हममज्जहब**  
सहधर्मी 735 19  
**हममुल्क**  
स्वदेश वासी 34.21,  
**हमरा [हमरी]**  
हमारा [हमारी] 316.28  
**हमराह**  
सहकर्मी 700 22  
सहयात्री 1088.2  
**हमराही**  
संगी 696 2  
सहकर्मी 700.22  
सहयात्री 1088.2  
**हमला**  
आक्रमण 914 3  
रोग आक्रमण 169 1  
**हमलावर**  
प्रहारशील 918 32  
**हम लोग**  
हम 316 21  
**हमबक्रत**  
समकालीन 59.3  
**हमबतन**  
स्वदेश वासी 34 21  
**हमवार**  
समतल 986 9  
**हमवारी**  
समतलता 986 1  
समतलन 986.2  
**हमवारी रंदा**  
रंदा 559 31  
**हमसाकर**  
संगी 696 2  
सहयात्री 1088.2  
**हम सब**  
स्वजन 725 1  
**हम सब का**  
हमारा [हमारी] 316.28  
**हमसर**  
समान (प्रतियोगी) 707.10  
**हमसाया**  
पकोत्ती 31 4

**हमाम**  
वाप्य स्नान कला 221.19  
स्नानागार 221 17  
**हमायल**  
कंधा तलवारः पेट्टी 571.4  
**हमार**  
हमारा [हमारी] 316 28  
**हमारा [हमारी]**  
सामूहिक 690.13  
स्वजनीय 725 5  
हमारा [हमारी] 316.28 ⇨  
**हमारापन**  
सामूहिकता 690 2  
स्वजन भावना 725 2  
**हमारे अपने**  
स्वजन 725 1  
**हमारे लोग**  
स्वजन 725 1  
**हमारो**  
हमारा [हमारी] 316 28  
**हमाल**  
कुत्ती 1061.4  
**हमिंग बर्ड (ऑ)**  
गायक पक्षी सूची 126 9  
**हमीर हठ**  
दृढ प्रतिज्ञा 339.18  
**हमें**  
हमें 316.39 ⇨  
**हमेशा**  
हमेशा 1049.17  
**हमेशा**  
हमेशा 1049 17 ⇨  
**हमेशा से**  
पारंपरिकतः 795 17  
**हम्मीर**  
राग रागिनी सूची 457 24  
**हयंकष**  
इंद्र. सारथी 773 8  
सारथी 1079.10  
**हयंद**  
घोड़ा 127.35  
**हय**  
घोड़ा 127 35  
**हयग्रीव**  
दानव सूची 783.13  
दैत्य सूची 783.19  
विष्णु 768.1  
विष्णु चौबीस अवतार सूची 769 9  
हयग्रीव 769.33 ⇨  
हयग्रीव अवतार 769.13  
**हयग्रीव अवतार**  
हयग्रीव अवतार 769.13 ⇨  
**हयग्रीव असुर इंता**  
मत्स्य अवतार 769.32  
**हयग्रीव रिपु**  
विष्णु 768.1  
**हयग्रीवा**  
दुर्गा 776.7

**हयग्रीवावतार**  
हयग्रीव अवतार 769.13  
**हयघ्न**  
कनेर 14.3  
**हयघर्या**  
दिग्विजय यात्रा 907.27  
**हय दानव**  
दानव सूची 783 13  
**हयन**  
छप्पर गाड़ी 1071 29  
वर्ष 42.8  
**हयमेघ**  
अश्वमेघ 754 13  
**हयवाहन**  
कुबेर 779.4  
**हयशीर्ष**  
विष्णु 768.1  
**हय स्कंध**  
घोड़ा समूह 690 12  
**हया**  
परदानशीनी 591 1  
लज्जा 845 1  
श्लीलता 733 6  
**हयात**  
जीवन 246.6  
प्राण तत्त्व 245 1  
**हयादार**  
लज्जाशील 845 11  
**हयादारी**  
लज्जाशीलता 845.2  
**हयानन**  
हयग्रीव 769 33  
**हयारोहण**  
अश्वारोहण 1082 5  
**हयारोही**  
अश्वारोही 1082 6  
**हयाराना**  
घीरू 13 7  
**हयी**  
अश्वारोही 1082 6  
मादा घोड़ा 127.36  
**हयेट**  
जई 187.13  
**हर**  
अधिकार भागी 897 16  
अधिग्रहण कर्ता 635 17  
अपनयन 1053.3  
अपनायक 1053.14  
अपहरण 862.1  
आनयन कर्ता 1053.11  
दर से 947.30  
नाशक 531.8  
पहुँचाने वाला 1053.17  
प्रलयरकर 530.8  
भिन्न संख्या 949.16  
मारक 251.24  
विभाजक संख्या 955.15

**-हर**  
सम्मोहनपूर्ण 367.7  
**हर (जर्मन)**  
पुरुष उपाधि सूची 856.2  
**हर एक**  
सर्व 940.8  
**हर और**  
यत्तुदिशतः 29 36  
सुलभतः 943 7  
**हरक**  
विभाजक संख्या 955.15  
शिव 767 1  
**हरकत**  
गतिविधि 502 2  
दुष्कर्म 812 6  
प्रयत्न 489.1  
संघलन 1037.4  
**हरकतदार**  
सघल 1037 19  
**हरकत में आना**  
संघलित होना 1037 13  
**हरकती**  
संघल 1037.19  
**हर कहीं**  
यत्तुदिशतः 29 36  
सुलभतः 943 7  
**हरकारा**  
कुरियर 444.20  
घावक संदेश वाहक 443 4  
**हर काल**  
त्रिकाल 36 9  
**हर कोई**  
सर्व 940 8  
**हर क्षण**  
प्रति क्षण 1049.19  
**हरगिज़ नहीं**  
असंभवतः 68 20  
कभी नहीं 72 12  
**हरगिरि**  
केलास शिखर 17.2  
**हरगोविंद**  
सिख गुरु सूची 794.2  
**हरगोरी**  
अर्धनारीश्वर 767 27  
शिव पार्वती 767.3  
**हरघंड**  
अनेकदा 73.6  
क्षमतापूर्वक 487 33  
जैसे कैसे 514.22  
विविधतः 310.11  
शत प्रति शत 947.32  
**हरज**  
विलंब 495.1  
**हर जगह**  
सुलभतः 943.7  
**हरजाई**  
व्यभिचारिणी 806.11  
व्यभिचारी 806.10

**हरजाना**  
अर्थ दंड 870.7  
डिमरेज 670.8

**हरजोता**  
आटि 126.13

**हरठिया**  
रहट घालक 19.24

**हरक**  
हक 281.37

**हरण**  
अधिग्रहण 635 1  
अपनयन 1053 3

**-हरण**  
अपनायक 1053 14

**हरण**  
अपहरण 862 1  
घटान कर्म 954 6  
चौर्य वृत्ति 864 1  
छीन 635 7  
पहुँचाई 1053 5  
कूट सूची 767 36  
लूट 864 21  
वहन 1061.1  
सक्षेपण 980 5

**हरण कर्ता**  
अधिग्रहण कर्ता 635 17  
अपहर्ता 862.8  
घोर 864 3

**हरणि**  
नहर प्रणाली 23 5

**हर तराह**  
प्राय 73.7

**हर तरह**  
क्षमतापूर्वक 487 33  
जैसे कैसे 514.22  
शत प्रति शत 947 32

**हर तरह से**  
विविधतः 310 11

**हर तरह से क्षमना**  
विमर्श करना 330.16

**हरताल**  
हरताल 92.13 ⇨

**हरतेज**  
पारा 94.9  
शिव वीर्य 767.4

**हर दम**  
हमेशा 1049.17

**हर दिन**  
प्रति दिन 1049 20  
हमेशा 1049.17

**हरना**  
चोरी करना 864.44  
छीनना 635.13  
प्रवृत्त करना 635 15

**हरनेत्र**  
शिवः दीसरा नेत्र 767.8

**हरपरवेशी**  
टोना टोटका सूची 759.3

**हर घल**  
प्रति क्षण 1049.19  
हमेशा 1049 17

**हरप्रिय**  
कनेर 14 3

**हरक्रान मीला**  
सर्वगुण सपन्न 313 17

**हरक्रान मीलापन**  
सर्वगुण सपन्नता 313.8

**हरबा**  
आयुध 922 1

**हर बार**  
अनेकदा 73 6

**हरबा हथियार**  
आयुध 922 1

**हरबीज**  
शिव वीर्य 767 4

**हरबोंग**  
अव्यवस्थितता 894 5  
लाठीचारी 930 17

**हरबोंग पुर**  
कुशासन 894 3

**हरम**  
कलश 745.43  
जनानखाना 614 20

**हरमखाना**  
जनानखाना 614.20

**हरमसरा**  
अंतःपुर. पहरदार 908 11  
जनानखाना 614 20

**हरमोनिया**  
हारमोनियम 461.91

**हरयाणा**  
हरियाणा 28 70

**हरराय**  
सिख गुरु सूची 794.2

**हररूप**  
शिव 767.1

**हर रोज**  
प्रति दिन 1049 20  
हमेशा 1049 17

**हर वक्रत**  
हमेशा 1049.17

**हर बाहन**  
नंदी 767 14  
बैल 127.13

**हरवीर्य**  
पारा 94.9  
शिव वीर्य 767.4

**हरचना**  
आनंदित होना 382 11

**हरचाना**  
आनंदित होना 382 11

**हरचनना**  
आनंदित होना 382.11

**हर क्षमय**  
हमेशा 1049.17

**हरसार्ज**  
हारमोन 129.9

**हरसा**  
हलः लट्ठा 583 13

**हरसाना**  
आनंदित होना 382.11

**हर सिंगार**  
हार सिंगार 13.27

**हरहर**  
हरहराहट 297 41

**हर हर महादेव**  
शिव 767 1

**हरहराहट**  
हरहराहट 297.41 ⇨

**हरहा**  
हल बैल 127 18

**हरहार**  
शोचनाग 778.22

**हर हाल**  
अवश्यमेव उक्ति सूची 68.23  
उठते बैठते 1049.18

**हर हाल में**  
अवश्यमेव उक्ति सूची 68.23

**हरौस**  
ज्वर अनुभूति 163.20

**हरा**  
पार्वती 776 9  
वर्णाली रंग सूची 289.9  
हरा 289.69 ⇨

**हरा [हरी]**  
अपक्व (वनस्पति) 118.20  
आनंदित 382.17  
चुरा [चुरी] 864.51  
वर्षा कालीन 54 19  
हरा 289.69

**हरा आम**  
कच्चा आम 190 9

**हराई**  
हल कर्म 548.3

**हरा कच्चा आम**  
अंबी 3

**हराना**  
जीतना 912 12

**हरापन**  
हरीतिमा 289.21  
हरा भरा [हरी भरी]  
अम्लान 119.14  
उर्वर (भूमि) 552.16  
पुष्पित 118 14  
प्रस्फुटित 119.10  
वनस्पतियुक्त 111.31  
वर्षा कालीन 54.19  
वसंत कालीन 52.3  
समृद्ध 626.11

**हराभरापन**  
वनस्पतियुक्तता 111.2

**हरा भरा होना**  
वनस्पतियुक्त होना 111.29

**हराम**  
अनुमति अदत्त 338.35  
अनैतिक 816.4  
अवैध 878.27  
कपट आय 643.6  
धर्म निषिद्ध (आहार) 198.12  
धर्म निषिद्ध आहार 198.5  
निषिद्ध 880.12  
पाप 812.1  
विधि विरुद्ध 515.8  
विवाह अनिष्टा 806.1

**हरामकारी**  
दुश्चरित्रता 811.1  
पाप 812.1

**हराम की कमाई**  
कपट आय 643.6

**हराम की कमाई खाना**  
परावर्त्नी होना 648.7

**हरामखोर**  
आलसी 490.14  
कृतघ्न 833.11  
निष्ठाहीन 827.16  
रिश्वतखोर 865.26

**हरामखोरी**  
कृतघ्नता 833.4  
रिश्वतखोरी 865.10  
निष्ठासघात 827.4

**हरामज़ादी**  
दुर्जनता 818.1

**हरामजना [हरामजनी]**  
जारज 716.18

**हरामज़ाबा [हरामज़ाबी]**  
जारज 716 18

**हरामी**  
जारज 716.18  
दुर्जन 818.5  
व्यभिचारी 806.10

**हरारत**  
आदेश 371 1  
ज्वर अनुभूति 163.20  
संचलन 1037.4

**हराबल वस्ता**  
सेनाग्र 933 1

**हरास**  
उत्साहहीनता 492.1  
पस्ती 169.6  
हताशा 376.2

**हरि**  
इंद्र 773.5  
कृष्ण 771.1  
राम 770.1  
विष्णु 768.1  
सिंह 127.50  
सूर्य 8.1

**हरि ओम्**  
व्याहृति सूची 741.24  
हरि ओम् तत् सत्  
व्याहृति सूची 741.24

## हरिकिशन

### हरिकिशन

सिख गुरु सूची 794.2

### हरि चंदन

कल्पवृक्ष 13.29

केसर 274.16

### हरि चंदन वृक्ष

स्वर्ग वृक्ष सूची 13.28

### हरिचंद्रा

शफरी 125.12

### हरिजन

हरिजन 731.12 ⇨

### हरिजन (महात्मा गांधी)

शूद्र 731.28

### हरिण

विष्णु 768.1

हिरन 127.42

### हरिण नर्तक

किन्नर 778.1

### हरिणांक

चंद्रमा 8.2

### हरिणी

मादा हिरन 127.43

स्वर्ण मूर्ति 406.15

### हरित

अम्लान 119.14

हरा 289.69

### हरितक

शाक 111.9

### हरित मणि

पत्रा 96.13

### हरित वणिल (घ्र)

क्लोरोफिल 179.14

### हरित शाक

सहजन 13.24

### हरिता

हलदी 281.38

### हरिताल

हरताल 92.13

### हरितालक

नाट्य मेकअप 464.39

### हरितालिका

दूध घास 11.10

### हरिताहम

यशब 96.23

### हरितिल (घ्र)

क्लोरोफिल 179.14

### हरितोपल

पत्रा 96.13

### हरि वर्ध

कुश घास 11.8

### हरि देव

विष्णु 768.1

### हरिद्वजनी

हलदी 281.38

### हरिद्रा

हलदी 281.38

### हरिद्रु

वृक्ष 111.18

### हरि द्वेषी

असुर 783.6

### हरि नग

सर्प मणि 96.20

### हरिनाकुस

हिरण्य कशिपु 769.25

### हरिनाम्ह

हनुमान 781.19

### हरिपृष्ठा

मेकरल 125.10

### हरिप्रिय

कदंब 13.6

कनेर 14.3

शिय 767.1

### हरिप्रिया

गौडर घास मूल 112.15

तुलसी 13.9

द्वादशी 44.18

पृथ्वी 9.1

लक्ष्मी 775.1

### हरिबीज-

हरताल 92.13

### हरि भक्ति

ईश्वर पूजा 751.4

### हरिमंथ

मटर 189.31

### हरि मंदिर

विष्णु मंदिर 745.35

### हरि मणि

सर्प मणि 96.20

### हरिमा

हरीतिमा 289.21

### हरिय

विष्णु विषयक 768.18

### हरियल

उर्वर (भूमि) 552.16

वनस्पतियुक्त 111.31

वर्षा कालीन 54.19

हरा 289.69

### हरिया

हलवाह 548.4

### हरियाई

गर्भवती (पशु) 241.16

वनस्पतियुक्तता 111.2

शस्य 111.8

हरीतिमा 289.21

### हरियाणवी

हरियाणवी 421.16 ⇨

### हरियाणा

हरियाणा 28.70 ⇨

हरियाणा: राजधानी

हरियाणा: राजधानी 28.71 ⇨

### हरियान

गरुड 777.15

### हरियाणा

हरियाणा 28.70

हरियाला [हरियाली]

उर्वर (भूमि) 552.16

वनस्पतियुक्त 111.31

वर्षा कालीन 54.19

समृद्ध 626.11

हरा 289.69

### हरियाला बन्ना

बन्ना गीत 796.26

वर 801.10

### हरियाला सावन

भावण 43.11

### हरियाली

वनस्पतियुक्तता 111.2

शस्य 111.8

हरीतिमा 289.21

### हरियाली तीज

झूला तीज 57.8

### हरियाली सड़क

ठडी सड़क 1063.21

### हरि लीला

कृष्ण लीला 771.24

कृष्ण लीला 463.18

### हरिवंश

कृष्णकथा ग्रंथ सूची 771.21

### हरि वर्ष में पूजित अवतार

नृसिंह अवतार 769.20

### हरि वल्लभा

जवा कुसुम 14.17

### हरिवास

पीपल 13.14

### हरिवाहन

सूर्य 8.1

### हरिशर

शिय 767.1

### हरिस

हल लट्ठा 563.13

### हरि सखा

गंधर्व 778.3

### हरि सिंगार

हार सिंगार 13.27

### हरिचुत

अर्जुन 771.36

प्रद्युम्न 771.73

### हरिहय

इंद्र 773.5

गणेश 773.22

स्कंद 773.50

### हरिहर

विष्णु और शिव 766.17

### हरिहरात्मक

दक्ष 787.2

नंदी 767.14

### हरिहृति

बीर बहूटी 122.32

### हरि हेति

सुदर्शन चक्र 928.3

### हरि हेति हृति

धकवा 128.31

### हरी

गर्भवती (पशु) 241.16

बेगार श्रम 643.20

विष्णु 768.1

### हरी इमली

हरी इमली 277.9 ⇨

### हरीकेन लैप (ऑ)

लालटेन 285.12

### हरी घुड़ियाँ

हरी घुड़ियाँ 802.14 ⇨

### हरी झंडी

आरंभ संकेत सूची 521.8

हरी झंडी 1067.18 ⇨

### हरीतकी

हड़ 281.37

### हरीतिमा

हरीतिमा 289.21 ⇨

### हरी बत्ती

हरी बत्ती 1067.17 ⇨

### हरी भरी

सतानवती 239.10

### हरीय

विष्णु विषयक 768.18

### हरीश

सुग्रीव 781.17

हनुमान 781.19

### हरे कौच की घुड़ियाँ

हरी घुड़ियाँ 802.14

### हरेणु

मटर 189.31

मादा हिरन 127.43

रेणुका 274.25

### हरे पत्ते

शाक पात 189.2

### हरे पत्ते: वनस्पति

शस्य 111.8

### हरेरी

शस्य 111.8

### हरेना

जुआ 1076.22

हल अँकुड़ी 563.9

हल लट्ठा 563.13

### हरेया

घोर 864.3

### हरोती

हल. पकड़ 563.11

### हरोला

सेनाग्र 933.1

### हर्गिण

अवश्यमेव 68.21

### हर्ज

हानि 646.7

### हर्जा

हानि 646.7

### हर्जाना

क्षति पूर्ति 634.16

### हर्बल रेस (ऑ)

बाधा दौड़ 484.9

### हर्ता

अधिग्रहण कर्ता 635.17

अपनायक 1053 14  
 अपहर्ता 862.8  
 आनयन कर्ता 1053.11  
 घोर 864 3  
 चीनने वाला 635 24  
 नाशक 531 8  
 शिव 767 1  
**हर्निया**  
 हर्निया 163 31 ⇨  
**हर्निया (अँ)**  
 हर्निया 163 31  
**हर्ष**  
 अक्षर 410 2  
 उक्ति 434 1  
 परामर्श 332 1  
 वचन 339 15  
 शब्द 423 1  
**हर्म्य**  
 नरक 259 6  
 महल 602 32  
**हर्म्य तल**  
 ऊपरी मजिल 612 6  
**हर्म्यम्ह**  
 इंद्र 773 5  
**हर्यात्मा**  
 वेद व्यास 789 21  
**हर**  
 हड़ 281 37  
**हराक्रा**  
 व्यभिचारिणी 806 11  
**हर्ष**  
 आनंद 382 1  
**हर्षः अश्रु**  
 हर्ष अश्रु 387 3 ⇨  
**हर्ष कंफ**  
 रोमांच 382 6  
**हर्षक**  
 रोमांचक 382 22  
**हर्षद**  
 आनंदप्रद 382 18  
**हर्षनाद**  
 आनंद ध्वनि 382 10  
**हर्षपूर्वक**  
 प्रसन्नतापूर्वक 381 11  
**हर्षयित्तु**  
 स्वर्ण 95 4  
**हर्ष कर्षक**  
 आनंदप्रद 382.18  
**हर्षवर्धन**  
 आनंदप्रद 382 18  
**हर्षविभोर**  
 अति आनंदित 382 20  
**हर्षतिरेक**  
 अति आनंद 382 4  
**हर्षतिरेक रचन**  
 हर्षतिरेक रचन 386.15 ⇨  
**हर्षान्वित**  
 आनंदित 382.17

**हर्षाश्रु**  
 हर्ष अश्रु 387 3  
**हर्षित**  
 आनंदित 382 17  
 प्रसन्न 381 7  
**हर्षी**  
 प्रसन्न कर्ता 381 8  
**हर्षुल**  
 कामुक 237 14  
**हर्षोत्कर्ष**  
 अति आनंद 382 4  
**हर्षोत्फुल्ल**  
 अति आनंदित 382 20  
**हर्षोत्सव कार्य**  
 मंगलोत्सव 796 1  
**हर्षोन्मत्त**  
 अति आनंदित 382 20  
**हर्षोन्माद**  
 सुख भाति 342 2  
**हर्षोत्सास**  
 आनंदपूर्णता 382 2  
**हलंत**  
 हलंत (वर्ण) 410 25  
 हल चिह्न 410 21  
**हलंत (वर्ण)**  
 हलंत (वर्ण) 410 25 ⇨  
**हल**  
 उत्तर 334 1  
 उपपत्ति 328 1  
 गणित फल 953.3  
 जलयान पेटा 1073.3  
 दिव्यास्त्र सूची 928 2  
 परिणाम 510 1  
 समाधान 334 6  
 समाधानित 334 14  
 हल 563.8 ⇨  
 हल चिह्न 410 21  
**हलः अँकुड़ी**  
 हल अँकुड़ी 563 9 ⇨  
**हलक्र**  
 कठ 145 9  
**हल करना**  
 पहेली बुझना 334 11  
 समाधान करना 334 10  
**हल करने वाला**  
 समाधान कर्ता 334 11  
**हल कर्म**  
 हल कर्म 548 3 ⇨  
**हलक्र सूखना**  
 बहुत प्यासा होना 180.13  
**हलक्रा**  
 अधिकार क्षेत्र 897 2  
 क्षेत्र 34 1  
 गोल पिंड 977 1  
 घेरा 604.7  
**हलका**  
 छहरा 154 30

**हलक्रा**  
 दल 691 1  
 नगर खड 819 5  
 परिधि 972 4  
 मडली 691.5  
**हलका**  
 लाइट 413 17  
**हलका [हलकी]**  
 अघम 840 4  
 अनथका 493 13  
 अनलंकृत 227 5  
 अप्रगाढ़ 80.8  
 अप्रतिष्ठित 850.5  
 अप्रबल 488 14  
 अल्प 942 13  
 असुंदर 156 3  
 अस्थिर 1037 22  
 अस्निग्ध 197 17  
 कनकना [कनकनी] (स्वर) 299.27  
 क्षीणकाय 159 13  
 गौरवहीन 850 6  
 नगण्य 853 10  
 बारीक 965 13  
 भारहीन 963 12  
 मंद 1045 10  
 विचारहीन 330 22  
 शक्तिहीन 488 10  
 सहज 518 14  
 सुनिवार्य 920 20  
 सुपाध्य 178 8  
 हलका [हलकी] 963 14 ⇨  
**हलका अंधकार**  
 धुँधलका 286 4  
**हलका उक्तावन**  
 हलका उक्तावन 593 4 ⇨  
**हलका काला**  
 हलका काला 289.39 ⇨  
**हलका रक्ता**  
 आकार चित्र 404 11  
**हलका गदा**  
 हलका गदा 593.44 ⇨  
**हलकान**  
 परेशान 519 21  
**हलका नीला**  
 हलका नीला 289.51 ⇨  
**हलकापन**  
 अघमता 840 1  
 भारहीनता 963.3  
 सहजता 518.1  
 हलकापन 963.5 ⇨  
**हलका पीला**  
 पांडुर 289.53  
**हलका फदका**  
 खदबदाव 91.5  
**हलकारा**  
 धावक सदेश याहक 443.4  
**हलकारी**  
 रंग दूहन 291.2

**हलका रौदना**  
 हलका रौदना 541.9 ⇨  
**हलका लाल**  
 हलका लाल 289.62 ⇨  
**हलकी टक्कर**  
 दघका 1051.18  
**हलकी सजा**  
 अल्प दंड 870.3  
**हलकी हवा**  
 बयार 85.14  
**हलके बाट द्वारा तौल**  
 हलके बाट द्वारा तौल 962.8 ⇨  
**हलकोरा**  
 लहर 1040.17  
**हलधल**  
 आंदोलन 902.8  
 आनंद मंगल 382 3  
 उत्सवपूर्णता 56.2  
 उधल पुधल 532.4  
 उद्विग्नता 377 4  
 उपद्रवप्रस्तता 903.2  
 कोलाहल 294 8  
 क्रांति विस्फोट 903.8  
 भागदीक 1084 16  
 सघलन 1037 4  
 हलधल 294.12 ⇨  
**हलधल न होना**  
 निरधल रहना 1038 6  
**हलधलपूर्ण**  
 कोलाहलपूर्ण 294 30  
 गतिविधिपूर्ण 502 12  
**हल धलाना**  
 हल धलाना 548.34 ⇨  
**हल धिह्न**  
 हल धिह्न 410.21 ⇨  
**हलः जुआ**  
 हलः जुआ 563.10 ⇨  
**हलजुता**  
 हल पशु 548.5  
 हलवाहा 548.4  
**हलजुता [हलजुती]**  
 ग्राम्यतापूर्ण 734.18  
**हलका**  
 लहर 1040 17  
**हलद**  
 बान तेल 800.30  
 हलदी 281.38  
**हलद हात**  
 बान तेल 800.30  
**हलदिया**  
 पीला 289.54  
 पीलिया 163.37  
**हलदी**  
 हलदी 281.38 ⇨  
**हलदी का हन्ध होना**  
 विवाह होना 799.42  
**हलदी तेल**  
 बान तेल 800.30

## हलधर

### हलधर

बलराम 771.74  
हल पशु 548.5  
हल बैल 127.18  
हल न होना  
समाधान न होना 335.8

### हलना

झूलना 1034.19  
हल: पकड़  
हल: पकड़ 583.11 ⇨

### हलपत

हल: पकड़ 583.11

### हल पशु

हल पशु 548.5 ⇨

### हलाक

शपथ 339.20

### हलाकनामा

शपथ पत्र 339.21

### हल: फाल

हल फाल 583.12 ⇨

### हलक्रिया

शपथपूर्ण 339.48

शपथपूर्वक 339.53

### हलाक्री

शपथपूर्ण 339.48

### हल बैल

हल बैल 127.18 ⇨

### हलभूत

हल पशु 548.5

### हलरा

तरंग 1040.1

### हलराता [हलराती]

उत्साहपूर्ण 491.9

तरंगित 1040.30

### हलराना

गोदी में हुलारना 721.11

लाड़ करना 721.9

### हलराव

मद द्रुम 211.2

### हल रेखा

हल रेखा 551.20 ⇨

### हल: लट्ठा

हल: लट्ठा 583.13

### हल: लट्ठा

हल: लट्ठा 583.13 ⇨

### हलवा

सहज कार्य 518.2

हलवा 203.45 ⇨

### हलवाई

हलवाई 194.15 ⇨

### हलवाई उपकरण

बारदाना 560.1

### हलवाहा

हलवाहा 548.4 ⇨

### हलवाही

हल कर्म 548.3

### हलसारी

कृषि सहयोग सूची 553.28

### हल: सेल

हल: सेल 583.14 ⇨

### हलहलाना

छपकना 688.17

### हल होना

समाधान होना 334.9

सुलझना 574.9

### हला

मदिरा 209.12

मद्य 209.1

स्त्री मित्र 705.3

### हलाक

नारा 531.1

### हलाकू

क्रसाई 206.43

जल्साद 871.17

हत्या कर्ता 251.29

### हलाभला

विवाद समाधान 877.4

### हलायुध

बलराम 771.74

विष्णु 768.1

### हलाल

धर्म सम्मत 735.12

वैध 878.28

हलाल 206.45 ⇨

हलाल मांस 206.17

हलाल मांस 206.17 ⇨

### हलाहल

बोधिसत्त्व सूची 793.16

विष 177.2

### हलिक

कृषक 548.2

### हलित

समाधानित 334.14

हलित 548.48 ⇨

### हलिया

सप्तर्षि मंडल 3.10

### हली

बलराम 771.74

हल बैल 127.18

### हली प्रिया

ताड़. मद्य 209.9

### हलीशा

हल लट्ठा 583.13

### हलुआ

हलवा 203.45

### हलोनी

मंथन: पात्र 554.13

### हलोर

लहर 1040.17

### हलोरना

छपकना 688.17

### हलोरा

लहर 1040.17

### हलक

जलयान: पेदा 1073.33

### हल्की सर्दी

सुहानी सर्दी 53.3

### हल्द

हलदी 281.38

### हल्दी

हलदी 281.38

### हल्थ

गाघ स्थल 984.6

गाघ्य 984.9

बुझ्य 334.16

### हल्या

जुता खेत 551.12

### हल्लन

करवट परिवर्तन 1027.5

भूकंप 9.17

### हल्ला

आक्रमण 914.3

कोलाहल 294.8

छापा 914.8

प्रबल आक्रमण 914.7

युद्धनाद 907.15

### हल्ला करना

कोलाहल करना 294.18

### हल्लागुल्ला

आनंद मंगल 382.3

उत्सवपूर्णता 58.2

कोलाहल 294.8<sub>7</sub>

### हल्लाज

घुनाई कर्मी 567.6

### हल्ला बोलना

आक्रमण करना 914.13

### हल्लीश

डाडिया रास 462.10

### हव

अग्नि 106.1

यज्ञ 753.1

### हवन

आहुति दान 753.6

काठ कलछी 681.6

यजन 753.3

यज्ञ 753.1

### हवन कुंड

यज्ञ वेदी 753.24

### हवन पात्र

यज्ञ वेदी 753.24

### हवलदार

पुलिस कर्मी 866.3

### हवस

इच्छा 359.1

कुव्यसन 812.7

भोग लिप्सा 363.4

लालसा 359.5

### हवा

अपान वायु 245.15

अपुष्ट समाचार 440.5

अभिमान 858.1

गैस 86.1

धकमा 819.9

तड़क भड़क 226.4

दिखावा 825.1

नया क्लेश 222.12

परिस्थिति 69.5

प्रचलन 514.7

प्रतिष्ठा 849.2

बयार 85.14

भूत 786.1

भूत बाधा 759.7

वायु 85.1

वैभव 226.5

संगति प्रभाव 696.5

संधिवात 163.23

सचल वायु 85.4

### हवाई

अवास्तविक 821.20

आयारागर्द 1090.43

उड़ड़यनशील 1030.32

कपोल कल्पित 308.19

कुटिल 818.7

तथ्यहीन 821.22

दिखावटी 825.5

दुतगामी [दुतगामिनी] 1044.7

राकेट 1075.1

स्निग्धभाषी 431.10

### हवाई अड्डा

विमान पत्तन 1069.16

### हवाई उड़ान

विलक्षण दर्शन 342.8

### हवाई कंपनी

विमान कंपनी 1068.10

### हवाई करतब

हयाबाजी 1081.23

हवाई कलाबाजी

हयाबाजी 1081.23

### हवाई क्लिला

दिवा स्वप्न 267.2

शोधी 842.5

### हवाई कूद

पैराशूटिंग 1081.36

### हवाई सूबर

अपुष्ट समाचार 440.5

### हवाई छतरी

पैराशूट 1074.9

### हवाई जहाज

विमान 1074.10

### हवाई डाक

हवाई डाक 444.24 ⇨

### हवाई धीला

एअर बैग 444.12

### हवाई नटबाजी

हयाबाजी 1081.23

### हवाई नाव

जल विसर्पी नौका 1072.4

### हवाई पट्टी

रनवे 1069.20

### हवाई बाण

राकेट 1075.1



राकेट 927.19  
 हवाई बात  
 अपुष्ट समाचार 440.5  
 हवाई महल  
 दिवा स्वप्न 267.2  
 शोखी 842.5  
 हवाई मार्ग  
 नभ मार्ग 1066.1  
 हवाई मुरगा  
 हवाई मुरगा 85.34 ⇨  
 हवाई युद्ध  
 नभ युद्ध 905.13  
 हवाई लकाई  
 नभ युद्ध 905.13  
 हवाई शीख  
 हैगार 1069.32  
 हवा खाना  
 विघरना 1085.10  
 हवाझोरी  
 चेहलकदमी 1084.7  
 वायु सेवन 1085.4  
 हवाझोरी यान  
 सैर यान 1071.18  
 हवा गाड़ी  
 कार 1071.55  
 हवागीर  
 आतिशगर 56.10  
 हवादान  
 रोशनदान 608.20  
 हवादार सड़क  
 ठडी सड़क 1063.21  
 हवा देना  
 अग्नि उदीप्त करना 107.12  
 हवा न देना  
 न कहना 429.12  
 हवा निकलना  
 अभिमान मर्दित होना 911.7  
 हवापानी  
 जलवायु 51.1  
 हवाबाज़  
 पैराशूटिस्ट 1081.37  
 विमान चालक 1081.2  
 हवाबाज़ी  
 घकमेबाज़ी 819.10  
 हवाबाज़ी 1081.23 ⇨  
 हवा भरना  
 कूकना 1046.20  
 हवा में उड़ना  
 नभोत्पत्ति होना 1081.45  
 हवा से उड़ना 1041.5  
 हवा में फेंकना  
 उछालना 1052.15  
 हवा में बहना  
 हवा से उड़ना 1041.5  
 हवा लगाना  
 हवा से सुखाना 89.8  
 हवालगी  
 सिपुर्दगी 838.5

हवाला  
 अभ्युदेश 437.5  
 काला घन तस्करी 865.4  
 पहली संकेत 333.16  
 संदर्भ 437.3  
 सिपुर्दगी 838.5  
 हवालात  
 हवालात 868.12 ⇨  
 हवालाती  
 हवालाती 868.42 ⇨  
 हवाला देना  
 अभ्युदेश करना 437.10  
 हवाला देने वाला  
 अभ्युदेशक 437.12  
 हवाले करना  
 सत्ता सीपना 902.20  
 सिपुर्द करना 638.13  
 हवाले से  
 सदभर्त 437.18  
 हवास  
 घेतना 263.4  
 तत्काल बुद्धि 301.2  
 हवासिल  
 जलपक्षी सूधी 126.7  
 हवा से उड़ना  
 हवा से उड़ना 1041.5 ⇨  
 हवा से बात करते  
 शीघ्रत 496.13  
 हवा से बातें करना  
 तेज़ दीङना 484.14  
 हवा से सुखाना  
 हवा से सुखाना 89.8 ⇨  
 हवा होना  
 तेज़ दीङना 484.14  
 हवि  
 आहुति द्रव्य 753.27  
 घी 196.7  
 यज्ञ 753.1  
 विष्णु 768.1  
 हवि दाता  
 आहुति दाता 753.7  
 हवि दान  
 आहुति दान 753.6  
 हवि देना  
 आहुति देना 753.31  
 हवि द्रव्य  
 आहुति द्रव्य 753.27  
 हविर्दान  
 आहुति दान 753.6  
 हविर्भू  
 यज्ञ स्थान 753.17  
 हविर्भोजी  
 देयता 772.1  
 हविर्याजी  
 यज्ञ पुरोहित 753.10  
 हविष्य ईधन  
 सभिधा 753.29

हविष्यान्न  
 हव्यान्न 753.26  
 हविस  
 खब्त 353.11  
 हवेली  
 महल 602.32  
 राज महल 602.34  
 हवेली 602.14 ⇨  
 हव्य  
 आहुति द्रव्य 753.27  
 हव्यपाक  
 हव्यान्न 753.26  
 हव्यवाहन  
 शिव 767.1  
 हव्यान्न  
 हव्यान्न 753.26 ⇨  
 हव्याशन  
 अग्नि 106.1  
 हव्या  
 होवा 236.5  
 हव्या (हिष्)  
 आदम पत्नी 791.7  
 हशीश  
 हशीश 212.9 ⇨  
 हश्र  
 परिणाम 510.1  
 प्रतिफल 510.3  
 प्रलय 530.1  
 हसंती  
 शाक खेत 551.10  
 हसन  
 हसन 791.27 ⇨  
 हसनीय  
 उपवास्य 844.11  
 हारजप्रद 384.14  
 हसब  
 आनुवंशिकता 727.17  
 हसब नसब  
 आनुवंशिकता: 727.17  
 हसरत  
 लानस 359.5  
 हसरती  
 लालसी 359.29  
 हसिका  
 हास 384.1  
 हसित  
 कामदेव: धनुष 773.15  
 हसिता  
 हासरील 384.13  
 हस्रीन  
 सुंदर 157.7  
 हसीना  
 सुंदर स्त्री 157.2  
 हस्त  
 नक्षत्र सूची 4.6  
 पाणि 150.1  
 हस्त 149.2 ⇨  
 हस्त मुद्रा 464.1

हस्तलेख शैली 412.7  
 हाथ 959.18  
 हस्त आलिंगन  
 हस्त आलिंगन 1080.10 ⇨  
 हस्तक  
 अकुशल श्रमिक 651.21  
 हाथ 959.18  
 हस्त कमल  
 पाणि 150.1  
 हस्त कला  
 हस्त शिल्प 557.9  
 हस्त कलाकार  
 शिल्पकार 557.10  
 हस्त कौशल  
 हाथ की सफ़ाई 473.28  
 हस्तक्षेप  
 क़ताकलामी 435.2  
 हस्तक्षेप 1047.13 ⇨  
 हस्त क्षेपक  
 हस्तक्षेप कर्ता 1047.30  
 हस्तक्षेप करना  
 हस्तक्षेप करना 1047.20 ⇨  
 हस्तक्षेप कर्ता  
 हस्तक्षेप कर्ता 1047.30 ⇨  
 हस्तगत  
 प्राप्त 637.8  
 हस्तगत करना  
 अधिग्रहण करना 635.10  
 आदान करना 637.3  
 हस्तगत होना  
 प्राप्त होना 637.4  
 हस्तग्राहक  
 सहायता दाता 700.25  
 हस्त धर्या  
 हस्त रंजन 225.30  
 हस्त धिष्टन  
 हस्त धिष्टन 261.37 ⇨  
 हस्त धिष्टन सूची  
 हस्त धिष्टन सूची 261.38 ⇨  
 हस्त ताल  
 पाणि पेट 150.2  
 हस्त ताल  
 ताली 458.50  
 हस्त त्राण  
 दस्ताना 588.2  
 हस्त बौध  
 कम ताल 962.3  
 हस्त द्वारा प्रेषित  
 हस्त द्वारा प्रेषित 1054.24 ⇨  
 हस्त परिधान  
 हस्त परिधान 588.1 ⇨  
 हस्त पीङन  
 हस्त आलिंगन 1080.10  
 हस्त पृष्ठ  
 पाणि पृष्ठ 150.6  
 हस्त प्रक्षालन  
 हस्त प्रक्षालन 220.2 ⇨

## हस्ताप्रद

### हस्ताप्रद

सहायता दाता 700.25  
हस्त मिलाप  
हस्त आलिंगन 1060 10  
हस्त मुद्रा  
हस्त मुद्रा 464.1 ⇨  
हस्त रंजन  
हस्त रंजन 225 30 ⇨  
हस्तरेखा  
हस्तरेखा 261.39 ⇨  
हस्तरेखायिद  
हस्तरेखायिद 261 46 ⇨  
हस्तरेखा विद्या  
हस्तरेखा शास्त्र 261 40  
हस्तरेखा शास्त्र  
हस्तरेखा शास्त्र 261.40 ⇨  
हस्त लाघव  
घीसठ कला सूची 397 4  
बाज़ीगरी 473 17  
हाथ की सफ़ाई 473 28  
हस्तलिखित  
हस्तलिखित 412.45 ⇨  
हस्तलिखिततः  
हस्तलिखिततः 412.51 ⇨  
हस्तलिखित पुस्तक  
हस्तलिखित पुस्तक 446.2 ⇨  
हस्तलिपि  
पांडुलिपि 412.29  
प्राचीन हस्तलिपि 77 11  
हस्तलेख शैली 412.7  
हस्तलेख  
पांडुलिपि 412 29  
हस्तरेखा 261 39  
हस्तलेख 412.6 ⇨  
हस्त लेखक  
कातिब 413.8  
हस्त लेखन  
किताबत 413.7  
हस्तलेख शैली  
हस्तलेख शैली 412.7 ⇨  
हस्त शिल्प  
हस्त शिल्प 557 9 ⇨  
हस्त शिल्पी  
शिल्पकार 557 10  
हस्ताहीन  
लूला 153.18  
हस्तांजलि  
अंजलि पात्र 150.3  
हस्तांतरण  
सत्ता हस्तांतरण 902.4  
स्वत्व अंतरण 622 16  
हस्तांतरण 638.4 ⇨  
हस्तांतरण लेना  
आदान करना 637.3  
हस्तांतरित  
सत्ता हस्तांतरित 902.26  
सिपुर्द 638 18

हस्तांतरित करना  
हस्तांतरित करना 638 12 ⇨  
हस्ताक्षर  
हस्ताक्षर 444.8 ⇨  
हस्ताक्षरित  
हस्ताक्षरित 444.37 ⇨  
हस्तागति  
प्राप्ति 637 2  
हस्ताग्र  
अग्रहस्त 149 8  
हस्तादात  
प्राप्त 637 8  
हस्तादान  
आदान 637 1  
हस्तामलकवत  
प्रत्यक्ष दृष्ट 284 50  
स्पष्टतः 822 32  
हस्तारविद  
कमल पाणि 158.9  
हस्तालिंगन  
हस्त आलिंगन 1060 10  
हस्ताभ्रय  
हस्ताभ्रय 596 23 ⇨  
हस्तास्त्र  
शस्त्र 922 2  
हस्ताहस्ति  
हाथापाई 905 23  
हस्ताहस्तिका  
हाथापाई 905 23  
हस्तिक  
अकुराल श्रमिक 651 21  
हस्तिकर  
सूँड़ 142 7  
हस्तिकर्ण  
पलाश 13 13  
हस्तिगिरि  
पौराणिक पर्वत सूची 17 8  
हस्तिनी  
मादा हाथी 127.39  
स्त्री भेद सूची 236 6  
हस्ति मणि  
हस्ति मणि 96.21 ⇨  
हस्तिमल्ल  
ऐरावत 780 5  
हस्ती  
अस्तित्व 246.1  
जीव 121.4  
जीवन 246 6  
प्रतिष्ठा 849.2  
व्यक्तित्व 836.1  
हाथी 127 38  
हस्ती कर  
सूँड़ 142 7  
हस्ती नेस्ती  
जीवन मरण 246 4  
हस्ती भिटना  
नष्ट होना 531 4

हस्तीमुख  
गणेश 773 22  
हस्तीय  
हस्तीय 149.19 ⇨  
हस्तोदिय  
कर्मद्रिय सूची 268 8  
हस्ते  
हस्त द्वारा प्रेषित 1054 24  
हस्तोपकरण  
हस्तोपकरण 558.9 ⇨  
हस्त्य  
हस्तीय 149 19  
हस्पताल  
अस्पताल 175.5  
हस्त्रे मामूल  
प्रायः 73 7  
हस्त्र  
उद्दिग्नाता 377 4  
कपन 1039 11  
हस्त्राना  
आश्चर्य होना 379 5  
हस्त्र  
आश्चर्यताता 379 2  
ठिठुरना 105 4  
हस्त्राना  
ठिठुरना 105 18  
भयभीत होना 395.13  
हहा  
आनंद. ध्वनि सूची 382.25  
हहोलिका  
सतबहनी घरखी 126 36  
हही  
अनुमति 337 5  
अवश्यमेव. उक्ति सूची 68 23  
स्वीकृति 337 1  
स्वीकृति: उक्ति सूची 337 28  
हौं 337.29 ⇨  
हुंकारा 399 7  
हौक  
अधिकार दावा 897 5  
आवाहन 1055.1  
उत्प्रेरण 499 2  
ललकार 373.14  
हैकाई 1079 11  
हौकना  
दर्प करना 858 9  
निकाल भगाना 1092 14  
पशु वेग बढ़ाना 1043.12  
शेखी मारना 842.10  
हौकना 1079.19 ⇨  
हौकने वाला  
हौकने वाला 1079.25 ⇨  
हौ करना  
अनुमति देना 337.12  
स्वीकृति देना 337.10  
हौक वाला  
हौकने वाला 1079.25

हौका  
आवाहन 1055 1  
पशु चालन 1082 12  
हौका 252 5 ⇨  
हौका [हौकी]  
हैका [हैकी] 1079 24  
हौका करना  
हौका करना 252.29 ⇨  
हौके वाला  
पशु चालक 1082 13  
हौके वाला 252.32 ⇨  
हौग  
स्वीकृति 337 1  
हौं 337.29  
हौगना  
अपराध स्वीकार करना 876 23  
हौगने वाला  
अपराध स्वीकर्ता 876 28  
हौगर  
हौगुर 125 15  
हौगा  
बल प्रयोग 487 5  
हौगी  
अपराध स्वीकृति 876.9  
हौं 337 29  
हौगुर  
हौगुर 125.15 ⇨  
हौ जी  
हौं 337.29  
हौ जी हौ जी करना  
घातुकारिता करना 841 26  
हौक  
बड़ा घडा 679 3  
हौकी  
पाक भांड सूची 682 2  
हौकी  
मथन: पात्र 554.13  
हौकी  
लैप ग्लोब 285.26  
हैंडिया 679 21  
हौफ  
हौफ 245.14 ⇨  
हौफता [हौफती]  
हौफता [हौफती] 245.28 ⇨  
हौफना  
हौफना 245.22 ⇨  
हौ में हौ करना  
घातुकारिता करना 841 26  
हौ या ना  
स्पष्ट उत्तर 334.4  
हौसी  
उपहास 844 1  
नोकझोंक 385 8  
घिनोद 385 1  
ध्यांय 844.5  
हास 384.1  
हौ हौ  
अवश्यमेव: उक्ति सूची 68.23

हॉ ही करना  
हुंकारा भरना 399 18  
हॉ ही हॉ  
सनिरघय हॉ 337.30  
हाइक  
हाइक 1087.9 ⇨  
हाइक (अं)  
हाइक 1087 9  
हाइकिंग (अं)  
हाइक 1087 9  
हाइड्रोमीटर (अं)  
आर्द्रता मापी 958 39  
हाइजीन (अं)  
सुजीविता 170 2  
हाइजीनिक (अं)  
सुजीवितापूर्ण 170.11  
हाइजेकिंग (अं)  
विमान अपहरण 862 3  
हाइट (अं)  
ऊंचाई माप 958 16  
लंबाई माप 958 12  
हाइड्रोकार्बस (अं)  
खनिज तेल 110 16  
हाइड्रोजन  
हाइड्रोजन 86 10 ⇨  
हाइड्रोजन (अं)  
हाइड्रोजन 86 10  
हाइड्रोजन बम  
हाइड्रोजन बम 927.17 ⇨  
हाइड्रोजन बम (अं)  
हाइड्रोजन बम 927 17  
हाइड्रोजनटेड वैजिटेबल ऑइल (अं)  
वनस्पति घी 196 8  
हाइड्रोप्लेन (अं)  
जल विसर्पी नौका 1072 4  
नौका सूची 1072 3  
हाइपोकोरिडिया (अं)  
रोग भ्रम 353 7  
हाइफ्रन (अं)  
योजक चिह्न 425 37  
हाइब्रिडाइजेशन (अं)  
सकरण 243 7  
हाइवे (अं)  
राजमार्ग 1063 39  
हाई कमान  
महा अध्यक्ष 652 16  
सर्वाध्य सत्ता 899 4  
हाई कमिश्नर (अं)  
उच्चायुक्त 443.12  
हाई कमीशन (अं)  
उच्चा आयोग 443.14  
उच्चायोग 692.11  
हाई कोर्ट (अं)  
उच्च न्यायालय 874 9  
हाईजेकर (अं)  
विमान बटमार 864.35  
हाई प्रिस्ट (अं)  
बिशप 744 34

हाईबाल (अं)  
काकटेल 209 6  
हाई ब्लड प्रेशर (अं)  
उच्च रुधिर चाप 131 6  
हाई सी (अं)  
खुला समुद्र 24  
हाई स्कूल (अं)  
शिक्षालय सूची 321 11  
हाई हील्स (अं)  
ऊंची एड़ी 588 30  
हाउस टैक्स (अं)  
गृह कर 647 9  
हाउस बोट (अं)  
शिकारा 1072 23  
हाऊ  
हौआ 785 8  
हाकर (अं)  
पत्र पत्रिका विक्रेता सूची 420 7  
हाकिम  
प्रबधक 655 9  
राजा 882 6  
शासक 890 5  
सत्ताधारी 899 3  
हाज  
हाजी 1089 9  
हाजत  
आवश्यकता अनुभूति 524 8  
इच्छा 359 1  
हाजतमंद  
आवश्यकता ग्रस्त 524 21  
हाजली  
हवालाती 868 42  
हाज़मा  
पाचन शक्ति 178 2  
हाज़मेदार  
पाचकता वर्धक 178 9  
हाज़िर  
आगत 1093.11  
उद्यत 491 15  
उपस्थित 1021 9  
हाज़िर करना  
परोसना 183 35  
प्रदान करना 638 6  
हाज़िरजवाब  
प्रत्युत्पन्नमति 301 24  
हाज़िर होना  
उपस्थित होना 1021.6  
हाज़िराती  
टोना कर्ता 759 2  
प्रेत साधक 759 13  
हाज़िरी  
उपस्थिति 1021.2  
उपस्थिति गणना 1021 4  
पूजा 751 1  
पेशी 876 5  
हाज़िरी देना  
उपस्थित होना 1021 6

हाज़िरी बजाना  
उपस्थित होना 1021 6  
हाजी  
हाजी 1089.9 ⇨  
हाट  
दुकान 662 1  
बाज़ार 663 1  
महल्ला 619 6  
शहरी सड़क 1063 37  
साप्ताहिक बाज़ार 663 7  
हाटक  
भाड़ा 622 10  
हाटकलोचन  
हिरण्याक्ष 769 35  
हाटकेश्वर  
शिवलिंग सूची 746 17  
हाक  
अस्थि 133 1  
शरीर 139 1  
हाकमांस का पुतला  
शरीर 139.1  
हाकमास  
शरीर 139.1  
हाक वैद्य  
अस्थि वैद्य 174 9  
हाकी  
कीआ 126 22  
हाकीय  
अस्थीय 133.20  
हाता  
अहाता 604 3  
हातिम  
परोपकारी 832 12  
ण्ठीण 303 22  
हाथ  
अजलि पात्र 150 3  
अग्रहस्त 149 8  
आधार सूची 596 2  
इन्द्रिय सूची 268 2  
उपयुक्त अवसर 70.3  
गोदी 721 /  
112.17  
तमाघा 918 16  
ताश प्राप्तांक 475 34  
दाँय 481 17  
दो उपमान सूची 948 20  
पाणि 150 1  
पाणि पेट 150 2  
पारी 70.9  
पार्श्व भाग 997.5  
युक्ति 517 1  
शाखा 114.10  
शोबदा 473 26  
संरक्षणपूर्ण सहायता 700 13  
साप्तांग दंडवत अंग सूची 1060.9  
हस्त 149.2  
हस्तरेखा 261 39  
हस्तलेख शैली 412.7

हस्ताश्रय 596.23  
हाथ 959.18 ⇨  
हाथ: 2/3  
फुट 959.13  
हाथ: अँगूठा  
हाथ अँगूठा 150.15 ⇨  
हाथ उठाना  
तमाघा लगाना 918.27  
हाथ का मैल  
अर्जित संपत्ति 624.5  
आय 643.1  
हाथ का लिखा  
हस्तरेखा 261 39  
हाथ की लकीर  
प्रारब्ध लेख 260.6  
हस्तरेखा 261.39  
हाथ की सफाई  
जेबकटाई 864.13  
हाथ की सफाई 473.28 ⇨  
हाथ के हाथ  
शीघ्रत 496 13  
हाथखर्च  
निजी व्यय 644.5  
हाथखर्च रोकक  
रोकक अग्रिम 630.11  
हाथ खींचना  
मित व्यय करना 644.14  
हाथ चलाना  
पानी ठेलना 483.26  
हाथ छाप  
हथेली छाप 414 10  
हाथ छोड़ना  
तमाघा लगाना 918 27  
हाथ जमना  
अभ्यस्त होना 303.12  
हाथ जोड़े  
अजलिबद्धत: 1060 29  
हाथ देना  
तमाघा लगाना 918.27  
सहयोग करना 700.14  
हाथ धरना  
विवाह करना 799.45  
हाथ धोना: कर्म  
हस्त प्रवालन 220.2  
हाथ: पंजा  
पाणि 150 1  
हाथ पकड़ना  
विवाह करना 799.45  
साथ चलना 1088 14  
हाथ पकड़ाई  
पाणिग्रहण 800.22  
विवाह 799.1  
हाथ पसारना  
भिक्षा माँगना 642 15  
हाथ पीले होना  
विवाह होना 799.42  
हाथ पैर  
हाथ पैर 149.1 ⇨

## हाथ पैर न हिलाना

हाथ पैर न हिलाना  
प्रयत्न न करना 490.6  
हाथ पैर बँधना  
हमता हरना 488.9  
हाथ पैर सिर हीन धड़  
रुंठ 147.2  
हाथ पैर हिलाना  
प्रयत्न करना 489.5  
हाथपैरहीन  
लँगड़ा लूला 153.20  
हाथ पैरों पर चलना  
घुटरियों चलना 1083.21  
हाथ फुहारना  
सिघन फुहारना 1032.12  
हाथ फैलाना  
प्रार्थना करना 350.11  
याचना करना 642.14  
हाथबँधा  
घोंपाकल 19.16  
हाथ बका कर  
उद्यततः 491.19  
हाथ बकाना  
सहयोग करना 700.14  
हाथ बँधे  
अंजलिबद्धतः 1060.29  
हाथ मलते रह जाना  
प्रतिफल न मिलना 510.9  
हाथ मारना  
घोरी करना 864.44  
पानी ठेलना 483.26  
हाथ मिलाई  
हस्त आलिंगन 1060.10  
हाथ में देना  
हस्तांतरित करना 638.12  
हाथ में लेना  
कार्य आरंभ करना 521.5  
हाथ रखना  
सत्कर्मपूर्ण सहायता करना 700.18  
हाथ लगाना  
प्राप्त होना 637.4  
हाथ साफ़ करना  
जेब काटना 864.45  
पूरा खा जाना 181.34  
हाथ से निकलना  
नियंत्रण न होना 900.4  
हाथ से लिखना  
हाथ से लिखना 412.37 ⇨  
हाथा  
धापा 800.19  
बरतन हत्था 680.29  
हथेली कवच 921.11  
हाथाछोटी  
आर्थिक बेईमानी 816.3  
हाथापाई  
हाथापाई 905.23 ⇨  
हाथाबोही  
कुरती 486.7  
हाथापाई 905.23

हाथी  
दिग्गज 780.1  
सेना: चार अंग सूची 932.10  
हाथी 127.38 ⇨  
हाथी: काठी  
होदा 595.53  
हाथीछाना  
गजशाला 603.21  
हाथी: गरदन  
महावत सीट 595.46  
हाथीघर  
गजशाला 603.21  
हाथी सूब  
हाथी सूब 958.24 ⇨  
हाथीवीत  
रत्न सूची 96.5  
हाथीवीत 96.30 ⇨  
हाथी: बोली  
धिघाड़ 298.20  
हाथी: मणि  
हस्ति मणि 96.21  
हाथीवान  
महावत 1082.15  
हाथी सवार  
गजारोही 1082.11  
हाथी: सूँड़  
सूँड़ 142.7  
हाथी सेना  
गज सेना 932.13  
हाथी होदा  
होदा 595.53  
हाथो हाथ  
शीघ्रतः 496.13  
हादसा  
घटना 75.1  
दुर्घटना 168.2  
हान  
हुण जाति 732.13  
हानि  
अकल्याण 711.1  
अपकार 831.4  
अपमान 855.1  
असफलता 513.1  
दुर्गुण 314.4  
नाश 531.1  
विलब्धि 863.1  
हानि 646.7 ⇨  
हानिकार  
अपकारक 831.15  
अपकार कर्ता 831.14  
अहितकारी 712.15  
हानिप्रद 646.18  
हानिकारक  
स्वास्थ्यहर 162.6  
हानिकारी  
अकल्याणकारी 711.9  
हानि पहुँचाना  
हानि होना 646.13

हानि पहुँचाना  
अपकार करना 831.9  
हानिप्रद  
अहितकारी 712.15  
स्वास्थ्यहर 162.6  
हानिप्रद 646.18 ⇨  
हानि प्राप्त  
हानि प्राप्त 646.17 ⇨  
हानि लाभ  
उन्नति अवनति 532.3  
लाभ हानि 646.1  
विमर्श 330.11  
हानि लाभ विवेचन  
दीयाली 57.15  
हानि संभावना  
आशंका 377.1  
जोखिम 519.5  
हानि होना  
हानि होना 646.13 ⇨  
हाक पैट (अँ)  
निकर 586.2  
हाक मास्ट (अँ)  
ध्वजा नमन 1060.24  
हाकिज़  
अल्लाह 764.12  
कठघर 356.24  
कुरान कठघर 356.25  
पहरेदार 908.9  
रक्षक 908.20  
सकट मोचक 910.10  
स्मृतिघर 356.22  
हाकिज़ा  
स्मृतिघरता 356.3  
हामला  
गर्भवती 241.14  
हामी  
अनुगामी 345.7  
अनुसमर्थक 329.23  
अपराध स्वीकृति 876.9  
स्वीकृति 337.1  
हाँ 337.29  
हामी भरना  
स्वीकृति देना 337.10  
हाय  
आर्तनाद 386.3  
आह 386.4  
हाय 386.12 ⇨  
हायण  
वर्षीय 42.27  
हाय तौबा  
आर्तनाद 386.3  
हायन  
वर्ष 42.8  
हायनिक  
वर्षीय 42.27  
हायर (अँ)  
भाड़ा 622.10  
वाहन भाड़ा 622.11

हायर परचेज़ (अँ)  
भाड़ा क्रय 660.7  
हायरार्क (अँ)  
विशेष 744.34  
हायल  
घायल 168.7  
हायस्थि (अँ)  
गोमेद 96.9  
रत्न सूची 96.5  
हाय हाय  
हाय 386.12  
हाय हाय करना  
आर्तनाद करना 386.17  
हार  
असफलता 513.1  
आनयन कर्ता 1053.11  
कठहार 228.26  
क्रीड़ा लक्ष्य अप्राप्ति 475.25  
गुरु मात्रा 452.40  
घटान कर्म 954.6  
पटकनी 486.19  
पराजय 913.1  
पहुँचाई 1053.5  
पुष्प माला 228.31  
प्रालंब सूची 1024.4  
युद्ध समर्पण 916.9  
सम्मान माला 857.21  
-हार  
सहितः प्रत्यय सूची 1006.5  
हारक  
छली 827.24  
मोती माला 228.33  
विभाजक सख्या 955.15  
हार कर वापसी  
पीछे हटना कर्म 916.6  
हार जीत  
उन्नति अवनति 532.3  
जय पराजय 912.7  
लाभ हानि 646.1  
विपरीतता उपमान सूची 310.13  
हार जीत न होना  
जय पराजय न होना 912.14  
हारजीतहीन  
जयपराजयहीन 912.21  
हारजीतहीनता  
जयपराजयहीनता 912.8  
हार जीत होना  
जय पराजय होना 912.13  
हारण  
अपाहरण 862.4  
हारन  
होर्न 461.92  
हार न मानना  
हायवसाय करना 489.7  
हारना  
काया शिथिल होना 159.8  
पराजित होना 913.3  
वृद्ध होना 232.7

**हारना जीतना**  
लाभ हानि होना 646.9  
**हार मानना**  
युद्ध समर्पण करना 916.17  
**हार मोती**  
मनका 228.48  
**हारमोन (अँ)**  
हारमोन 129.9  
**हारमोनियम (अँ)**  
हारमोनियम 461.91  
**हारमोनियम आदि वाद्यः परदा मोड़**  
तहदार मोड़ 975.18  
**हार या जीत**  
जय या पराजय 912.22  
**हार सिंगार**  
नगर वृक्ष सूची 13.2  
*हार सिंगार 13.27 ⇨*  
**हारा [हारी]**  
असफल 513.4  
पराजित 913.5  
**हारा [-हारी]**  
सहित प्रत्यय सूची 1006.5  
**हारा [हारी]**  
हताश 376.6  
**पारायल**  
सेनाग्र 933.1  
**पारिक**  
अपनायक 1053.14  
**हारित**  
चुरा [चुरी] 864.51  
छीना [छीनी] 635.23  
बलिदत्त 754.21  
युद्ध पलायित 916.23  
**हारी**  
आनयन कर्ता 1053.11  
एकत्रक 667.13  
क्रम विस्थापक 992.6  
छीनने वाला 635.24  
ठग 864.32  
पहुँचाने वाला 1053.17  
**-हारी**  
प्रलोभक 359.32  
सम्मोहनपूर्ण 367.7  
**हारीत**  
ऋषि मुनि सूची 789.17  
कबूतर 126.16  
फ़ासख़ता 126.52  
बटमार 864.34  
**हार्डकवर पुस्तक**  
*हार्डकवर पुस्तक 446.7 ⇨*  
**हार्ड कोक (अँ)**  
हार्ड कोक 110.10  
**हार्ड डिस्क (अँ)**  
हार्ड डिस्क 951.13  
**हार्ड बोर्ड (अँ)**  
हार्ड बोर्ड 990.11  
**हार्ड वाटर (अँ)**  
कठोर जल 88.2

**हार्डवेअर (अँ)**  
हार्डवेअर 951.8  
**हार्ड**  
द्वितीय 146.13  
**हार्दिक**  
घनिष्ठ 704.27  
**हार्दिकता**  
घनिष्ठता 704.13  
घनिष्ठता 704.13  
**हार्बर (अँ)**  
बदरगाह 1069.8  
**हार्य**  
जय 518.20  
मघनीय 468.35  
विभाज्य संख्या 955.18  
**हार्य**  
कृषि भूमि 552.1  
जुता बुआ खेत 551.13  
**हार्वैस्टर**  
*हार्वैस्टर 563.16 ⇨*  
**हाल**  
दधका 1051.18  
दोलन 1037.8  
निकट भविष्य मे 36.35  
निकट भूत काल 36.11  
भाव विभोरता 358.14  
भूकप 9.17  
वर्तमान काल 36.13  
समाचार 440.1  
स्पंद 1039.1  
स्वास्थ्य दशा 161.2  
**हाल (अँ)**  
धित्रशाला 669.12  
बड़ा कमरा 614.2  
सभागार 695.1  
**हाल (जैसे: ननिहाल)**  
गृह 601.1  
**हाल का**  
निकट भूत कालीन 36.19  
**हालघाल**  
कुशल प्रश्न 710.7  
स्वास्थ्य दशा 161.2  
**हालडोल**  
भागदौड़ 1084.16  
विघलन 501.4  
सघलन 1037.4  
हलघल 294.12  
**हालत**  
परिस्थिति 69.5  
स्वास्थ्य दशा 161.2  
**हालत में**  
परिस्थिति में 69.14  
**हालत डोलन**  
झूलन 1034.1  
हालना  
झूलना 1034.19  
मवलित होना 1037.13

**हालपूछ**  
कुशल प्रश्न 710.7  
**हाल पूछना**  
कुशल क्षेम पूछना 710.16  
**हाल में**  
निकट भविष्य में 36.35  
निकट भूत काल में 36.31  
वर्तमान में 36.33  
**हालरा**  
गोदी हुलराई 721.8  
झोका 85.12  
लहर 1040.17  
**हाल ही**  
निकट भूत काल में 36.31  
**हाल ही का**  
नवीन 64.10  
**हालौंकि**  
यद्यपि 507.14  
**हाला**  
मदिरा 209.12  
नद्य 209.1  
**हाला डोला**  
उथल पुथल 532.4  
झूला 1034.3  
भागदौड़ 1084.16  
लहर 1040.17  
सघलन 1037.4  
हलघल 294.12  
**हालात**  
तथ्य 820.14  
परिस्थिति 69.5  
वृत्तान्त 449.14  
समाचार 440.1  
**हालात में**  
परिस्थिति में 69.14  
**हालाते हाज़रा**  
वर्तमान परिस्थिति 69.6  
**हालिक**  
कृषक 548.2  
ग्राम्यतापूर्ण 734.18  
बलराम 777.74  
हल पशु 548.5  
हल बैल 127.18  
**हालिया**  
वर्तमान कालीन 36.21  
**हाली**  
छोटी साली 724.40  
हलवाहा 548.4  
**हालीय**  
मघीय 209.41  
**हालीबः लकड़ी जूता**  
लकड़ी जूता 588.16  
**हाव**  
अभिनयः अलंकार 464.28  
**हायक**  
यज्ञ पुरोहित 753.10  
**हावभाव**  
अंग मुद्रा 464.33

**अभिनय मुद्रा 464.30**  
नाज़ नख़रा 860.1  
भाव अभिव्यक्ति 358.10  
संकेत 422.4  
**हावभाव विखाना**  
नाज़ नख़रा करना 860.12  
**हावभावपूर्ण**  
नख़रेबाज़ 860.18  
**हावभाव प्रदर्शन**  
अभिनय 464.2  
**हावला बावला**  
पागल 354.24  
**हावी**  
आहुति दाता 753.7  
व्यापक 981.12  
**हाशिया**  
किनारा 1000.10  
कोर 1000.2  
तिकोना बूटा 578.16  
*हाशिया 1000.12 ⇨*  
*हाशिया लिखाई 1000.14*  
**हाशियाः लिखाई**  
*हाशियाः लिखाई 1000.14 ⇨*  
**हास**  
उपहास 844.1  
प्रस्फुटन 119.1  
विकास 534.4  
सुख 390.2  
*हास 384.1 ⇨*  
**हास (हास्य)**  
स्थायी भाव सूची 358.4  
**हास उपहास**  
उपहास 844.1  
**हासदी (प्र)**  
कोमेडी 463.4  
**हासनिक**  
सह खिलौकी 475.5  
**हास परिहास**  
विनोद 385.1  
**हासशील**  
*हासशील 384.13 ⇨*  
**हासहीन**  
*हासहीन 384.15 ⇨*  
**हासा**  
घटना 8.2  
**हासिद**  
ईर्ष्यालु 709.6  
**हासिल**  
अर्जित 648.8  
अवशिष्ट अंश 939.7  
उपलब्ध 943.9  
गणित फल 953.3  
निष्कर्ष 84.1  
परिणामतः प्राप्त 510.11  
प्रतिलब्ध 863.8  
प्राप्त 637.8  
फ़सल 547.1  
सार 84.16

## हासिल जमा

हासिल जमा	
जोड़ फल 954.3	
हासिल जर्न	
गुणन फल 955.4	
हासिल तकनीक	
भाग फल 955.14	
हासिल तकनीक	
घटान फल 954.9	
हासिल होना	
प्राप्त होना 637.4	
हासी	
उपहास कर्ता 844.12	
विनोदी 385.13	
हास्यरील 384.13	
हास्यिक	
गजारोही 1082.11	
महावत 1082.15	
हस्तीय 149.19	
हास्य	
नोकझोंक 385.8	
प्रहसन 450.28	
विनोद 385.1	
व्यंग्य 844.5	
हास 384.1	
हास्य अभिनय 464.15	
हास्य नाटक 463.5	
हास्यप्रद 384.14	
हास्य रचना 450.23	
हास्य रस 455.23	
हास्य व्यंग्य साहित्य 450.22	
हास्य अभिनय	
हास्य अभिनय 464.15 ⇨	
हास्य अभिनेता	
हास्य अभिनेता 464.16 ⇨	
हास्यक	
घुटकुला 450.26	
हास्यकार	
हास्यकार 448.6 ⇨	
हास्य कौतुक	
मनोरजन 469.1	
हास्यजनक	
हास्यप्रद 384.14	
हास्यता	
उपहास्यता 844.2	
हास्य नाटक	
कौमेडी 463.4	
प्रहसन 450.28	
हास्य नाटक 463.5 ⇨	
हास्य पात्र	
विदूषक 467.19	
हास्यपूर्ण	
हास्यप्रद 384.14	
हास्यप्रद	
हास्यप्रद 384.14 ⇨	
हास्य प्रेम	
विनोद प्रेम 385.2	
हास्य प्रेमी	
विनोदी 385.13	

हास्य रचना	
हास्य रचना 450.23 ⇨	
हास्य रस	
नवरस सूची 455.11	
हास्य रस 455.23 ⇨	
हास्य लेखक	
हास्यकार 448.6	
हास्य विनोद	
विनोद 385.1	
हास्य व्यंग्य	
उपहास 844.1	
हास्य व्यंग्य साहित्य 450.22	
हास्य व्यंग्य साहित्य	
हास्य व्यंग्य साहित्य 450.22 ⇨	
हास्य सखा	
विदूषक 467.19	
हास्यहीन	
हासहीन 384.15	
हास्यारम्भ	
उपहास्य 844.11	
हास्यारम्भता	
उपहास्यता 844.2	
हास्योत्पादक	
हास्यप्रद 384.14	
हाहा	
आनंद ध्वनि सूची 382.25	
गधर्व सूची 778.5	
हाहाकार	
आर्तनाद 386.3	
हाहा हूहू	
आनंदपूर्णता 382.2	
उत्सवपूर्णता 56.2	
कोलाहल 294.8	
हुकदग 294.13	
हिकार	
चिघाड़ 298.20	
हिंग	
हींग 281.39	
हिंगलाधी	
यक्षिणी सूची 779.14	
हिंगु	
हींग 281.39	
हिंगुल	
सिंदूर 225.18	
हिंगुलाजा	
दुगां मूर्ति सूची 746.4	
हिंगुली	
मत्स्य आखेट काँटा 252.17	
हिंघाई	
उथला जल नौका कर्षण 1080.5	
दलदल कर्षण 1051.10	
हिंज (औं)	
कब्जा 609.13	
हिंजक	
पर्यटक 1090.7	
लफ़गा 811.8	
हिंजन	
पर्यटन 1090.6	

यात्रा 1087.1	
हिंडोरा	
कृष्ण दोलोत्सव 57.31	
हिंडोल	
राग रागिनी सूची 457.24	
हिंडोलक	
झुलाने वाला 1034.23	
हिंडोलन	
झूलन 1034.1	
हिंडोला	
कृष्ण दोलोत्सव 57.31	
केबल ट्रेन 1071.65	
घरखी झूला 1034.10	
घरखी झूला डोली 1034.11	
पालना 1034.17	
हिंडोली	
डोली 1071.21	
हिंद	
भारत 28.1	
भारतीय 28.74	
हिंद महासागर	
हिंद महासागर 24.20 ⇨	
हिंदवी	
उर्दू 421.11	
भारतीय 28.74	
हिंदी 421.17	
हिंदसा	
अंतरराष्ट्रीय अंक 948.5	
संख्या अंक 948.3	
हिंदी	
भारत राजभाषा सूची 421.5	
भारत राष्ट्रभाषा सूची 421.4	
भारतीय 28.74	
हिंदी 421.17 ⇨	
हिंदी अंक	
हिंदी अंक 948.4 ⇨	
हिंदी अंक (1, 2, 3...)	
हिंदी अंक 948.4	
हिंदी काव्य सिद्धांत सूची	
हिंदी काव्य सिद्धांत सूची 453.12 ⇨	
हिंदी वर्ण: शिरोरेखा	
हिंदी वर्ण शिरोरेखा 968.10 ⇨	
हिंदी हिंदू हिंदुस्तान	
हिंदूवाद 884.26	
हिंदू	
हिंदू धर्मावलंबी 737.28	
हिंदुस्तान	
भारत 28.1	
हिंदुस्तानी	
भारतीय 28.74	
हिंदुस्तानी संगीत	
हिंदुस्तानी संगीत 457.11 ⇨	
हिंदू	
हिंदू धर्मावलंबी 737.28	
हिंदू त्रिमूर्ति	
हिंदू त्रिमूर्ति 765.7 ⇨	
हिंदू त्रिमूर्ति सूची	
हिंदू त्रिमूर्ति सूची 765.8 ⇨	
हिंदू धर्म	
हिंदू धर्म 737.27 ⇨	
हिंदू धर्मग्रंथ	
हिंदू धर्मग्रंथ 740.9 ⇨	
हिंदू धर्मावलंबी	
हिंदू धर्मावलंबी 737.28 ⇨	
हिंदू धार्मिक पाठशाला	
हिंदू धार्मिक पाठशाला 742.4 ⇨	
हिंदूधर पादशाही	
हिंदूवाद 884.26	
हिंदू ऋणाली	
दशम लव प्रणाली 950.5	
हिंदू वर्ण व्यवस्था	
वर्ण व्यवस्था 731.1	
हिंदूवाद	
हिंदूवाद 884.26 ⇨	
हिंदू विधि	
हिंदू विधि 878.8 ⇨	
हिंदोल	
रथ यात्रा 57.19	
हिंदोला	
कृष्ण दोलोत्सव 57.31	
केबल ट्रेन 1071.65	
घरखी झूला डोली 1034.11	
पालना 1034.17	
रथ यात्रा 57.19	
हिंदोलिका	
डोली 1071.21	
हिंदोस्तौ	
दक्षिण एशिया 27.2	
भारत 28.1	
हिंदोस्तान	
भारत 28.1	
हिंसक	
सामिष 205.3	
हिंसक 251.31 ⇨	
हिंसक आंदोलन	
क्रांतिकारी आंदोलन 904.5	
हिंसक कारगरवाई	
क्रांतिकारी आंदोलन 904.5	
हिंसक क्रांति	
हिंसक क्रांति 903.11 ⇨	
हिंसकता	
सामिषता 205.1	
हिंसक बलि	
हिंसक बलि 754.4 ⇨	
हिंसक बलिवान	
हिंसक बलि 754.4	
हिंसक विचार	
मानसिक हिंसा 251.17	
हिंसन	
मर्दन 911.1	
हिंसना	
उत्पीड़ित करना 391.20	
हिंसा	
अत्याचार 835.3	
प्रहार 918.1	
मारण 251.1	

हत्या 251 5  
 हिंसा 251.15 ⇨  
**हिंसात्मक**  
 अपकार कर्ता 831 14  
**हिंसापूर्ण**  
 हिंसापूर्ण 251.30 ⇨  
**हिंसा प्रतिहिंसा**  
 हिंसा प्रतिहिंसा 251.14 ⇨  
**हिंसास**  
 बाघ 127 55  
 हिंस्र जीव 121 14  
**हिंसासु**  
 हिंसक 251 31  
 हिंसापूर्ण 251 30  
**हिंसित**  
 प्रहारित 918 30  
 हत्या कृत 251 22  
**हिंस्य**  
 हतव्य 251 21  
**हिंस्र**  
 अत्याचारी 835 13  
 आक्रामक 914 19  
 आखेटक जीव 252 3  
 नाशक 531 8  
 निर्दय 835 10  
 बाघ 127.55  
 भीम 771 76  
 मारक 251 24  
 शिय 767 1  
 हिंसक 251 31  
 हिंसापूर्ण 251 30  
 हिंस्र जीव 121 14  
**हिंस्र जीव**  
 हिंस्र जीव 121 14 ⇨  
**हिंस्रता**  
 आक्रामकता 914 4  
 निर्दयता 835 2  
**हिंसाः (प्र)**  
 हिंस्र जीव 121 14  
**हिंसाउ**  
 मनोबल 394 4  
**हिंसाव**  
 मनोबल 394 4  
**हिंसक**  
 कुटिलता 818 3  
 कूट युक्ति 819 8  
 चिकित्सा 171 1  
 युक्ति 517 1  
 हकीमी 172 10  
**हिंसकमती**  
 कुटिल 818 7  
 दौघबाज़ 819.19  
 युक्ति कर्ता 517 10  
**हिंसायत**  
 उक्ति 434.1  
**हिंसायतगीरी**  
 कथा राघव 399 10

**हिक्का**  
 हिचकी 386 13  
 हुकक 386 14  
**हिचक**  
 हिचक 501.1 ⇨  
**हिचकना**  
 हिचकना 501 6 ⇨  
**हिचकशील**  
 हिचकशील 501 10 ⇨  
**हिचकिघाना**  
 हिचकना 501 6  
**हिचकिघाहट**  
 हिचक 501 3  
**हिचकी**  
 घिग्घी 386 6  
 हिचकी 386 13 ⇨  
**हिचकी बैधना**  
 हिचकी लगना 386 26  
**हिचकी लगना**  
 हिचकी लगना 386 26 ⇨  
**हिचकू**  
 हिचकशील 501 10  
**हिचकोला**  
 लहर 1040 17  
**हिचर मिघर**  
 बहानेबाजी 495 5  
**हिचहाइकिंग (अँ)**  
 हिचहाइकिंग 1087 10  
**हिजइन**  
 हिजइन 238 6 ⇨  
**हिजका**  
 मगल गायक 796 16  
 अतपुर दास 651 9  
 अतपुर पहरदार 908 11  
 हिजडा 238 5 ⇨  
**हिजकापन**  
 नपुंसकता 238 4  
**हिजकी**  
 हिजइन 238 6  
**हिजरी**  
 हिजरी संवत 42 7  
**हिजरी मास सूची**  
 हिजरी मास सूची 43 5 ⇨  
**हिजरी संवत**  
 हिजरी संवत 42 7 ⇨  
**हिजली बादाम**  
 काजू 191 4  
**हिजाब**  
 परदानशीनी 591 1  
 लज्जा 845 1  
 लज्जाशीलता 845 2  
**हिज्जे**  
 वर्ण विन्यास 411 15  
**हिज्ज**  
 पक्ष 885 3  
 राजनीतिक दल 885 15  
**हिटलरवाद**  
 नात्सीवाद 884 34

**हिडिब**  
 राक्षस सूची 784 4  
**हिडिबा**  
 राक्षस स्त्री सूची 784 23  
**हिडिबा पति**  
 भीम 771 76  
**हिडिबारि**  
 भीम 771 76  
**हिडोला**  
 कृष्ण दोलोत्सव 57.31  
**हित**  
 अतग्रहीत 1002 27  
 उपकार 832.1  
 कल्याण 710.2  
 रिश्तेदार 715 6  
 सौभाग्य 260 17  
 सौमनस्यपूर्ण 705 30  
 हित 712 1 ⇨  
**हित उपदेश**  
 सुपरामर्श 332 3  
**हितकर**  
 अनुकूल 885.37  
 उपकारक 832 9  
 उपकारी 832 10  
 कल्याणकारी 710 21  
 पीष्टिक 179.22  
 स्वास्थ्यप्रद 161 6  
**हित करना**  
 हित करना 712 9 ⇨  
**हितकर होना**  
 हितकर होना 712 10 ⇨  
**हितकाम**  
 कल्याण कामी 710 23  
 पुरुष मित्र 705 2  
**हित कामना**  
 कल्याण कामना 710 4  
**हितकारी**  
 उपकारक 832 9  
 उपयोगी 524 18  
 कल्याण कामी 710 23  
 कल्याणकारी 710 21  
 मित्रतापूर्ण 705 26  
 शक्ति वर्धक 487 23  
 स्वास्थ्यप्रद 161 6  
 हितकारी 712 13 ⇨  
**हित धितक**  
 कल्याण कामी 710.23  
**हित धितन**  
 कल्याण कामना 710 4  
**हितबुद्धि**  
 मित्रतापूर्ण 705 28  
 सदाशय 817 10  
 सौमनस्यपूर्ण 705.30  
**हित मित्र**  
 निस्वार्थ मित्र 705 10  
 स्थजन 725 1  
**हित वाक्य**  
 सुपरामर्श 332 3

**हित संघर्ष**  
 हित संघर्ष 905 3 ⇨  
**हिताई**  
 स्वजन भावना 725.2  
**हिताकांक्षी**  
 कल्याण कामी 710 23  
**हितार्थी**  
 कल्याण कामी 710.23  
 रिश्तेदार 715.6  
**हिताहित**  
 उन्नति अवनति 532.3  
 कल्याण अकल्याण 710.1  
**हितु**  
 कल्याण कामी 710 23  
 पुरुष मित्र 705.2  
 रिश्तेदार 715 6  
 हितकारी 712.13  
**हितेषणा**  
 कल्याण कामना 710.4  
**हितैषिता**  
 मित्रता 705 1  
**हितैषी**  
 कल्याण कामी 710.23  
 पुरुष मित्र 705.2  
 हितैषी 712.14 ⇨  
**हितोक्ति**  
 सुपरामर्श 332.3  
**हितोपदेश**  
 उपदेश कथा 450.14  
 सुपरामर्श 332 3  
**हिदायत**  
 धर्म आदेश 742.7  
 निर्देश 347.4  
 परामर्श 332 1  
 सुपरामर्श 332 3  
**हिदायतकार**  
 अनुदेशक 323 22  
**हिनाहिनाहट**  
 हिनाहिनाहट 298.29 ⇨  
**हिना**  
 मेहँदी 225.33  
**हिनाबंदी**  
 मेहँदी लगाई 800.37  
**हिप हिप हुर्रा**  
 शाबाशी उद्गार सूची 841.40  
**हिप्नोटिज़्म (अँ)**  
 हिप्नोटिज़्म 758 30  
**हिप्नोटिज़्मः पात्र**  
 हिप्नोटिज़्म. पात्र 758.31 ⇨  
**हिप्पो**  
 दरियाई घोड़ा 127.85  
**हिक्काजत**  
 रक्षा 908.1  
**हिक्कज**  
 रटा [रटी] 356.23  
**हिबू आदि पुरुष**  
 अब्राहम 791.4

## हिमंचल

हिमंचल  
हिमाचल प्रदेश 28 72  
हिमालय 17.7  
हिमंत  
हेमत काल 53.5  
हिम  
हिम 90.1 ⇨  
हिम वर्षा 54 13  
हिम ऋतु  
शीत काल 53.1  
हिमक  
फ्रीजर 671.11  
हिम कण  
ओस कण 90 12  
हिम कनु  
आइसबोट 1072 15  
हिमकर  
चंद्रमा 8 2  
हिमकारी  
फ्रीजर 105 10  
हिमकृत करना  
हिमकृत करना 105.17 ⇨  
हिम खंड  
हिम खंड 90.5 ⇨  
हिमागिरि  
हिमालय 17 7  
हिमागौर  
अति श्वेत 289 67  
हिमघात  
हिमाघात 284 10  
हिम जल  
ओस 90.11  
हिम तरण  
स्कीइंग 477 17  
हिमधर  
हिमालय 17.7  
हिम धाव  
हिम स्खलन 90 4  
हिमन  
हिमन 105 3 ⇨  
हिमनद  
हिमनद 90.6 ⇨  
हिम पात  
हिम वर्षा 54 13  
हिम पापुका  
स्की 588 39  
हिमप्रस्थ  
हिमालय 17.7  
हिम बालुका  
कपूर 274 14  
हिममय  
हिमयुक्त 90 16  
हिमयान  
स्लीज 588.40  
हिमयुक्त  
हिमयुक्त 90.16 ⇨  
हिमयुग मानव  
हिमयुग मानव 128.10 ⇨

हिमवंत  
हिमालय 17 7  
हिम वर्षा  
हिम वर्षा 54.13 ⇨  
हिमवान  
केलास शिखर 17 2  
हिमयुक्त 90.16  
हिमालय 17.7  
हिम शीतल  
अति शीतल 105 20  
हिम शैल  
प्लावी हिम शैल 90 7  
हिम संघात  
प्लावी हिम शैल 90 7  
हिम स्केटिंग  
आइस स्केटिंग 477.19  
हिम स्खलन  
हिम स्खलन 90.4 ⇨  
हिम हिरन  
रेनडियर 127.47  
हिमांक  
हिमांक 103.15 ⇨  
हिमांत  
वसंत काल 52 1  
हिमांबु  
ओस 90 11  
हिमांबु  
कपूर 274.14  
चंद्रमा 8 2  
हिमांबु माली  
चंद्रमा 8 2  
हिमाकृत  
अविदेक 302 4  
मूर्खता 302 1  
हिमागम  
शरद काल 53.4  
हिमाघात  
हिमाघात 264.10 ⇨  
हिमाचल  
हिमाचल प्रदेश 28 72  
हिमालय 17 7  
हिमाचल प्रदेश  
हिमाचल प्रदेश 28.72 ⇨  
हिमाचल प्रदेश: राजधानी  
हिमाचल प्रदेश: राजधानी 28.73 ⇨  
हिमाच्छन्न  
हिमाच्छन्न 90.17 ⇨  
हिमाच्छादित  
हिमाच्छन्न 90.17  
हिमाग्निरि  
हिमालय 17 7  
हिमानी  
हिमनद 90 6  
हिम वर्षा 54 13  
हिम स्खलन 90.4  
हिमाभ्र  
कपूर 274.14

हिमायत  
अनुगमन 345.2  
अनुसमर्थन 329 3  
पक्षधरता 885.1  
प्रतिपादन 326 1  
संरक्षणपूर्ण सहायता 700.13  
समर्थन 885 7  
हिमायती  
अनुगामी 345 7  
अनुसमर्थक 329.23  
पक्षधर 885.33  
मंडन कर्ता 326.17  
संरक्षणपूर्ण सहायक 700 27  
समर्थक 885 36  
हिमारि  
अग्नि 106 1  
हिमालय  
भारत उपमहाद्वीप: पर्वत सूची 17 1  
हिमालय 17 7 ⇨  
हिमालय 773.52 ⇨  
हिमालय (दे.)  
हिमालय 773.52  
हिमालय उठाना  
कठिन कार्य करना 487 17  
हिमालयज  
मैनाक 17 14  
हिमालयजा  
गंगा नदी 20 10  
पार्वती 776 9  
हिमालय निवासी  
गृह्यक 778.11  
हिमालय पर्वत  
हिमालय 17 7  
हिमाला  
हिमालय 17.7  
हिमावरुद्ध  
हिमाच्छन्न 90.17  
हिमावृत  
हिमाच्छन्न 90 17  
हिमिका  
ओस 90.11  
तुषार 90 8  
हिमित  
हिमाच्छन्न 90 17  
हिमित 105.23 ⇨  
हिमित्र (प्र)  
फ्रीजर 105 10  
हिमीकरण  
हिमन 105.3  
हिमीकृत द्रव्य  
बरफ़ 90.2  
हिमीभूत  
हिमित 105 23  
हिमीभूत ओस  
तुषार 90.8  
हिमीभूत जल  
हिम 90.1

हिमीय  
अति शीतल 105 20  
हिमीय 90.15 ⇨  
हिमोपल  
ओला 54 15  
हिम्मत  
प्रयत्न 489 1  
वीरता 396 1  
साहस 394 1  
हिम्मत अफ़ज़ाही  
शाबाशी 841 21  
हिम्मतदार  
साहसी 394 13  
हिम्मत पत्नी  
हिम्मत पत्नी 169.7 ⇨  
हिम्मत वाला  
साहसी 394 13  
हिम्मती  
साहसी 394 13  
हिय  
मन 351 2  
हृदय 146 5  
हियाँ  
यहाँ 30 5  
हिया  
मन 351 2  
हृदय 146 5  
हियाव  
वीरता 396 1  
हिरण  
हिरन 127 42  
हिरणी  
मादा हिरन 127 43  
हिरण्य  
पचासवीं [पचासवीं] 948 101  
ब्रह्मा 766 1  
स्वर्णिम 289 68  
हिरण्य कोश  
सूक्ष्म शरीर 139 2  
हिरण्य  
चौंदा 95.3  
जड़ पदार्थ 78.5  
तेजस्थिता 839 5  
दीप्ति 287.16  
दैत्य सूची 783 19  
घन संपत्ति 624 10  
बहुमूल्य धातु 93 4  
हिजित घन 864 28  
वीर्य 130.10  
वैभय 226.5  
शिघ्र 767 1  
संपत्ति 624.1  
स्वयं 95.4  
हिरण्य कशिपु  
दैत्य सूची 783.19  
प्रह्लादः पिता 789.23  
हिरण्य कशिपु 789.25 ⇨



हिरण्य कशिपु (अवतार)	विलुप्त होना 824 17	हिलता बुलता [हिलती बुलती]	उत्साह 491.1
शिशुपाल 771.91	विस्मरण करना 357.7	संचल 1037 19	क्रीडा 469.4
हिरण्य कशिपु: अवतार	प्रिरायल	हिलन	मद 211.1
रावण 784 12	सेनाप्र 933.1	झूलन 1034 1	लहर 1040.17
हिरण्य कशिपु: पुत्र सूची	हिरास	तरंगण 1040.15	हिलोरना
हिरण्य कशिपु पुत्र सूची 769.27 ⇨	आतंक 395.5	विघलन 501.4	उत्साहित होना 491.5
हिरण्य कशिपु: बहन	हताशा 376.2	संचलन 1037.4	छपकना 668 17
हिरण्य कशिपु बहन 769.26 ⇨	हिरासत	स्पंदन 1039.2	झकझोरना 10J7.16
हिरण्य कशिपु: भाई	बंदीकरण 868 1	हिलन बुलन	हिलोरा
हिरण्याक्ष 769.35	युद्ध समर्पण 916 9	संचलन 1037 4	झोटा 1034.2
हिरण्यकेश	हिरासती	हिलना	लहर 1040.17
विष्णु 768 1	बंदीकृत 868 34	अस्थिर होना 1037 14	हिलोल
हिरण्यगर्भ	हिरासी	आतंकित होना 395 16	लहर 1040.17
अर्धनारीनर मयु: उत्पत्ति 764 34	आतंकित 395 23	कंपित होना 1039.17	हिल्लन बुल्लन
ब्रह्मा 766.1	उत्साहहीन 492.13	झूलना 1034.19	झूलन 1034.1
शिव 767.1	परेशान 519.21	डगमगाना 1084.35	हिल्लोल
हिरण्य गर्भ	हताशा 376.8	तरंगित होना 1040 29	ऊँची लहर 1040 19
सूत्रात्मा 763.4	हिरोदक	प्रयत्न करना 489.5	मद झूम 211.2
हिरण्य गर्भ 764 32 ⇨	रुधिर 131 1	भय कंपित होना 395 14	हिवाँर
हिरण्यधनु: पुत्र	हिसँ	मदोन्मत्त होना 211 10	तुषार 90.8
एकलव्य 771 45	इच्छा 359 1	रेगना 1084 39	हिसाब
हिरण्यनाभ	उत्साह 491 1	वचन तोड़ना 338.30	अक गणित 953.1
मैनाक 17 14	भोग लिप्सा 363 4	विचलित होना 501 7	अनुपात 947 9
विष्णु 768.1	हिसाँहिसीँ	विस्थापित होना 1036 11	कुल सख्या 949.2
हिरण्यरेता	अनुकरण 505 8	संचलित होना 1037 13	गणना 950 1
सूर्य 8.1	प्रतिद्वंद्विता 707 1	स्पंदित होना 1039 14	दर 947 10
हिरण्यवान	हिसीँ	हिलना बुलना	लेखा 632.1
अग्नि 106 1	स्वार्थी 712 16	संचलित होना 1037 13	लेखा चिट्ठा 632.22
हिरण्याक्ष	हिलकना	हिलना डोलना	लेखा शीर्षक 632 4
दैत्य सूची 783 19	आह भरना 386 18	जीवनयुक्त होना 246 10	विद्यार 330.1
हिरण्याक्ष 769.35 ⇨	सिसकना 386.24	संचलित होना 1037.13	सामंजस्य 702 1
हिरण्याक्ष (पूर्वजन्म)	हिचकी लगना 386.26	हिल मिल कर	हिसाब कित्ताब
कुम्भकर्ण 784 6	हिलकी	सामंजस्यपूर्वक 702 8	आदान प्रदान संबंध 636.2
हिरण्याक्ष हंता	हिचकी 386 13	हिल-गंधिका	गणित शास्त्र 952.1
बराह अवतार 769.34	हिलकोर	बधुआ 189.28	लेखा 632.1
हिरदय	तरग 1040.1	हिलासा	लेखा चिट्ठा 632.22
हृदय 146 5	हिलकोरना	हिलसा 125.16 ⇨	लेखा पालन 632.31
हिरदा	झकझोरना 1037 16	हिल स्टेशन (ऑ)	हिसाब चुकाना
हृदय 146.5	हिलकोरा	सेलानी पर्वतीय नगर 620.19	प्रतिशोध लेना 873 8
हिरन	झोटा 1034.2	हिलाई	हिसाब घोर
हिरन 127.42 ⇨	लहर 1040.17	संगठन 1037.5	आर्थिक बेईमान 816.6
हिरन पाश	हिलग	हिलाना:	हिसाब घोरी
पशु पाश 1013 12	घनिष्ठता 704 13	अनुप्राणित करना 1046.19	आर्थिक बेईमानी 816.3
हिरना	संलग्नता 1010 2	ऊर्जायित करना 101.12	हिसाबदी
हिरन 127.42	हिलगना	दोलन करना 1037.15	गणितज्ञ 952.2
हिरनी	घनिष्ठ होना 704 13	विस्थापित करना 1036 12	हिसाबदार
मादा हिरन 127 43	परिचय बढ़ाना 704.17	हिलाने वाला	लेखापाल 632.32
हिर फिर कर	प्रेम करना 368.13	संचल कर्ता 1037.21	हिसाब बराबर करना
विचारितत: 330 29	संलग्न होना 1010.13	हिलाल	प्रतिशोध लेना 873.8
विविधत: 310.11	हिलगाना	अर्ध चंद्रमा 8.6	हिसाब बही
हिराना	संलग्न करना 1010.14	ईद का चौद 57.47	लेखा पुस्तक 632.8
असावधान होना 498.4	हिलजुल	दूज का चौद 407.15	हिसाब बीताना
आश्चर्य होना 379.5	संचलन 1037.4	हिलाली ईद	समाकलन करना 947.18
खो जाना 863 4	हिलता: [हिलती]	ईदुल फ़ितर 57.46	हिसाब रखाना
चेतना खोना 264.14	कंपित 1039 20	हिलाबन	लेखा पालन करना 632.37
घोरी होना 864.43	झूलता [झूलती] 1034.21	संचालन 1037.5	हिसाब से
अप्रति होना 342.9	संचल 1037.19	हिलोर	दर से 947.30
मार्ग भ्रम होना 1099 4		आनंद 382.1	

## हिसाबी

### हिसाबी

लेखापाल 632.32

### हिसार

घेरा 604.7

दुर्ग परकोटा 604.14

### हिसार बौधना

घेराबंदी करना 914.16

### हिस्टीरिया (अं)

हिस्टीरिया 353.8

### हिद्यता

भारकता 251.2

### हिस्सा

उत्तराधिकार 623.1

कला शैली 397.14

क्षेत्र 34.1

खंड 938.1

नगर खंड 619.5

पारा 739.4

प्राप्य अंश 623.8

विभाग 937.3

शोर 628.13

साझा 621.6

### हिस्सा बख्शरा

उत्तराधिकार विभाजन 623.6

### हिस्सा बौट

विभाजन 699.3

### हिस्से करना

भाग करना 955.22

### हिस्सेदार

सहोत्तराधिकारी 623.3

साझेदार 621.8

### हिस्सेदारी

बैंटाईदारी 553.21

साझेदारी 621.7

### हिस्से निकालना

भाग करना 955.22

### हिस्सों वाला

खंडीय 938.50

### हींग

हींग 281.39 ⇨

### हींच

दलदल कर्षण 1051.10

### हींचना

लोधारना 1051.24

### हींस

हिनहिनाहट 298.29

### ही

ही 945.9 ⇨

### हीक

दुर्गंध 273.5

हिचकी 386.13

### हीज़

नपुंसक 238.18

### हीटर (अं)

तप्तक 104.23

रूम हीटर 104.12

हीटर 104.11

### हीठना

निकट आना 1093.9

### हीन

अधम 840.4

अनुपयोगी 525.8

अप्रतिष्ठित 850.5

अभावग्रस्त 627.17

अयोग्य 304.6

अल्प 942.13

असंगत 439.5

असफल 513.4

असमृद्ध 627.16

कातर 380.11

खोटा [खोटी] 98.13

दयनीय 834.16

दुःखी 391.24

नगण्य 853.10

निकृष्ट 314.5

रहित 1007.3

### -हीन [-हीना]

रहित प्रत्यय सूची 1007.6

### हीनक

असमृद्ध 627.16

### हीनकर्मा

अधम 840.4

### हीन कवि

घटिया कवि 448.16

### हीनकुल

अकुलीन 728.16

### हीन कुल

निम्न कुल 728.8

### हीन क्रम

काव्य दोष सूची 453.6

### हीन ग्रंथि

हीनता ग्रंथि 352.8

### हीन चोर

कफन चोर 864.12

### हीनतः

रहिततः 1007.4

### हीनतर

निकृष्टतर 314.6

### हीनतरता

निकृष्टतरता 314.2

### हीनता

अकुलीनता 728.9

अधमता 840.1

अभावग्रस्तता 627.2

अल्पता 942.1

नगण्यता 853.3

निकृष्टतमता 314.3

निम्नता 983.1

रहितता 1007.1

### हीनता ग्रंथि

हीनता ग्रंथि 352.8 ⇨

### हीनदोष

शिय 767.1

### हीनप्रतिज्ञा

भग्नप्रतिज्ञा 338.49

### हीनबल

अबलिष्ठ 159.12

क्षमताहीन 488.15

### हीनबुद्धि

मूर्ख 302.7

### हीन भाव

हीनता ग्रंथि 352.8

### हीनमन्यता

हीनता ग्रंथि 352.8

### हीनमानक

अवमानक 957.9

### हीनमूल्य

अल्पमूल्य 664.32

### हीनमूल्यता

अल्पमूल्यता 664.12

### हीनयान

त्रियान सूची 737.18

बौद्ध संप्रदाय सूची 737.15

### हीन रस

काव्य दोष सूची 453.6

### हीन वंशीय

अकुलीन 728.16

### हीन वर्ण

निम्न वर्ण 731.9

### हीन वर्णीय

निम्न वर्णीय 731.33

### हीन वाद

कुतर्क 325.3

### हीनस्तरता

निकृष्टतमता 314.3

### हीनस्तरिय

अवमानक 957.9

निकृष्ट 314.5

### हीनशु

अंधकारपूर्ण 286.14

### हीनार्थ

असफल 513.4

### हीनाराय

संकीर्णहृदय 818.10

### हीनारायता

दुरारायता 818.4

### हीनित

अपमानित 855.11

उत्तराधिकार वंशित 623.25

रहित 1007.3

### हीमिया

टोना टोटका 759.1

### हीमियागर

प्रेत साधक 759.13

### हीमियावा

प्रेत साधक 759.13

### हीमोग्लोबिन (अं)

हीमोग्लोबिन 179.15

### हीय

हृदय 146.5

### हीर

इंद्र वज्र 928.8

फल. गुदा 191.13

बरमा वज्र 559.50

मज्जा 132.3

सार 84.16

हीरा 96.28

### हीरक

ज्वेल बीयरिंग 1077.25

साठवीं [साठवीं] 948.102

हीरा 96.28

### हीरक जयंती

हीरक जयंती 58.7 ⇨

### हीरा

उत्तमता उपमान सूची 313.4

ज्वेल बीयरिंग 1077.25

नवरत्न सूची 96.7

रत्न सूची 96.5

हीरा 96.28 ⇨

### हीरा कसीस

कसीस 214.7

### हीरातराश

हीरातराश 566.6 ⇨

### हीरे जवाहरात

रत्न समूह 96.2

### हीरो (अं)

नायक 467.5

### हीरोइन (अं)

नायिका 467.10

### हीलहुज्जत

तकरार 708.7

### हीला

आजीयिका 650.1

बहाना (मकर) 495.4

व्ययसाय 650.9

### हीला हवाला

बहानेबाजी 495.5

### हीलियम (अं)

हीलियम 86.11

### हीलेबाज़

बहानेबाज़ 495.15

### हुं

व्याहृति सूची 741.24

### हुंकार

गर्वाक्ति 842.2

गुर्राहट 298.18

गुर्राहट 373.5

घोर ध्वनि 294.6

युद्धनाद 907.15

ललकार 373.14

हुंकारा 399.7

### हुंकारना

गर्वाक्ति करना 842.7

### हुंकारना

हुंकारा भरना 399.18

### हुंकारा

हुंकारा 399.7 ⇨

### हुंकारा भरना

हुंकारा भरना 399.18 ⇨

### हुंकरत

गुर्राहट 373.5

**हुकति**  
गुराहट 373 5  
**हुड**  
राक्षस 784.1  
**हुडन**  
लक्रवा 264 12  
**हुडा**  
पत्नीधन 802 3  
**हुडी**  
ऋण पत्र सूची 633 15  
गुल्लक 630 5  
दान संग्रह पात्र 641 5  
विल 632 28  
हुडी 633 16 ⇨  
**हुआ [हुई]**  
उत्पन्न 546 9  
कृत 505 20  
घटित 75 11  
था [थी] 65 2  
**हुआपन**  
भूतता 65.1  
**हुक (अं)**  
कुलाबा 609 14  
हुक 1016 32  
**हुकना**  
लक्ष्य च्युत होना 931 19  
सोहन चिक्रिया 126 75  
**हुकमरान**  
सत्ताधारी 899 3  
**हुकुम**  
आज्ञा 347 1  
**हुकुर पुकुर**  
आशंका 377 1  
धकधकाहट 297 30  
हृदय कप 1039 5  
**हुकूमत**  
आधिपत्य 899 8  
शासन 890 1  
सत्ता 899 1  
**हुकूमती**  
शासकीय 890.20  
**हुक्रा**  
हुक्रा 213 10 ⇨  
**हुक्रा: धिलम**  
धिलम 213 11  
**हुक्रा: नय**  
नैघा 213 12  
**हुक्रा: निगाली**  
निगाली 213 13  
**हुक्रा पानी**  
सहभोज अधिकार 183 3  
**हुक्रा पानी बंद**  
जाति निर्वासन 870 11  
**हुक्रा पानी बंद करना**  
बहिष्कार करना 870 20  
**हुकम**  
आज्ञा 347.1  
डिक्री 877 17

तारा रग सूची 479 18  
न्याय निर्णय 877 14  
मुफ्ती आदेश 744 22  
शासन 890 1  
सत्ता 899 1  
**हुकम उदूल**  
अवज्ञा कर्ता 348 7  
**हुकम उदूली**  
अवज्ञा 348 1  
**हुकम का बंदा**  
आज्ञा पालक 347 12  
**हुकमनामा**  
आज्ञापत्र 347.5  
**हुकम फरमाना**  
आज्ञा देना 347 8  
**हुकम बरदार**  
आज्ञा पालक 347 12  
**हुकम बरदारी**  
आज्ञा पालकता 347 7  
**हुकमरान**  
दंड दाता 870 23  
राजा 882 6  
शासक 890 5  
शासक मंडल 890 6  
**हुकमी**  
आज्ञा पालक 347 12  
लक्ष्यानुगामी 931 22  
**हुघका**  
हुघका 575 10 ⇨  
**हुघकी**  
हिघकी 386 13  
हुघका 575 10  
**हुजम**  
अव्यवस्थित समूह 690 4  
जनाकीर्णता 616 11  
**हुजूर**  
राज दरबार 889 14  
**हुजूरी**  
दरबार सदस्य 889 15  
**हुज्जत**  
उत्तर प्रत्युत्तर 334 5  
कलह 708 1  
तकरार 708 7  
वाद विवाद 324 3  
वितंडा 324 5  
**हुज्जतबाज़**  
तकरारी 708 14  
**हुज्जती**  
कलहप्रिय 708 13  
तकरारी 708 14  
वितंडावादी 324.27  
**हुड**  
ढोल डग्गा 461.96  
धातु मैकी लाठी 923 10  
**हुडक**  
तीन मिलन अभिलाषा 1057 4  
हुडक 386.14 ⇨

**हुडकना**  
हुडकना 386 27 ⇨  
**हुडका**  
तीन मिलन अभिलाषा 1057.4  
हुडक 386 14  
**हुडका मारना**  
हुडकना 386 27  
**हुडदंग**  
स्तेपस्टिक 463.6  
हुडदंग 294 13 ⇨  
**हुडुक**  
घातक 126 39  
**हुडुकक**  
घटकनी 609 20  
धातु मैकी लाठी 923 10  
पागल व्यक्ति 354.15  
**हुडुडुक**  
हुडुक 386 14  
**हुत**  
शिय 767 1  
**हुताग्नि**  
यज्ञाग्नि 106 4  
**हुतारान**  
अग्नि 106 1  
**हुति**  
आहुति द्रव्य 753 27  
बलि कर्म 754 1  
बलि वस्तु 754.2  
**हुदहुद**  
कठफोर 126 15  
**हुनना**  
आहुति देना 753 31  
रच करना 753.30  
**हुनर**  
कला 397 1  
प्रशिक्षा 321 19  
**हुनरमंद**  
प्रवीण 303 22  
**हुनरमदी**  
प्रवीणता 303 8  
**हुनर शेरखाना**  
प्रशिक्षित करना 321 33  
**हुमक**  
तुमक 1084 8  
**हुमकना**  
आनंदित होना 382 11  
तुमकना 1084 31  
**हुमग**  
तुमक 1084.8  
**हुमगना**  
आनंदित होना 382 11  
उंडलना 1032.18  
तुमकना 1084.31  
**हुमघना**  
आनंदित होना 382.11  
उंडलना 1032.18  
रॉकना 379.6  
तुमकना 1084.31

नाघना 462.26  
**हुमस**  
नमीदार गरमी 53.9  
**हुमसना**  
आनंदित होना 382 11  
**हुमेल**  
सिक्का. कठहार 228.29  
**हुपहुल**  
सुरजमुखी 14.25  
**हुर्पा**  
आनंद ध्वनि सूची 382.25  
शाबाशी उद्गार सूची 841.40  
**हुलकना**  
धमन करना 215.29  
**हुलकी**  
मिचलाहट 215.27  
**हुलपाई**  
गोदी हुलराई 721.8  
**हुलराता [हुलराती]**  
उत्साहपूर्ण 491.9  
तरंगित 1040.30  
**हुलराना**  
गोदी में हुलारना 721.11  
**हुलसना**  
आनंदित होना 382 11  
उत्साहित होना 491.5  
तुमकना 1084.31  
नाघना 462.26  
मेघ समूह आना 55.12  
**हुलसा [हुलसी]**  
आनंदित 382 17  
**हुलसाब**  
गोदी हुलराई 721.8  
**हुलसित**  
आनंदित 382.17  
**हुलसी**  
उत्साह 491 1  
**हुलहुली**  
आनंद ध्वनि सूची 382.25  
**हुलास**  
आनंद 382.1  
उत्साह 491 1  
नसवार 213.5  
लालसा 359 5  
**हुलासक**  
आनंदप्रद 382 18  
**हुलिया**  
हुलिया 317.11 ⇨  
**हुलिया**  
डगमगाहट 1084.11  
तरंग 1040 1  
लहर 1040.17  
**हुल्लक**  
उपद्रव 803.1  
हुल्लक 294.14 ⇨  
**हुसना**  
रात की रानी 14.23

सैन

हुसैन

हुसैन 791.28 ⇨

हुसैन: शाहाबत रात  
शबे शाहादत 57.53

हुस्न

सुंदरता 157 1

हुं

हुंकारा 399 7

हुं 68.4 ⇨

हुकना

आर्तनाद करना 386 17

आह भरना 386.18

सिसकना 386.24

हुड़कना 386 27

हुंगा

हुंगा 67.5 ⇨

हुस

ईर्ष्या 709.1

नज़र 711.5

लालसा 359 5

वैमनस्य 706.10

हुसना

ईर्ष्या होना 709 3

भर्त्सना करना 843 17

मनोव्यथा होना 391 19

हुक

टीस 392 13

तीव्र मनोव्यथा 391.8

तीव्र मिलन अभिलाषा 1057 4

लालसा 359.5

सिसकी 386 10

हुड़क 386.14

हुकना

अप्रिय होना 370 3

टीसना 392 19

हुड़कना 386.27

हुज़ ह (अ)

व्यक्तिकोश 446 11

हुज़ ह 993.15

हुटना

पलायन करना 916 10

विमुख होना 1023.6

हुठा

अँगूठा 150 14

हाथ अँगूठा 150 15

हुड़

धृष्ट 734.20

हुण

स्वर्ण 95 4

हुण जाति 732 13

हुण जातीय 732 23

हुत

उत्पन्न 548 9

हुति

आयाचन 1055.5

आवाहन 1055 1

हु बहु

पूर्णतः समरूप 967.21

प्रतिरूपतः 967 23

समान 309.22

हुर

हुर 782.7 ⇨

हुराहुरी

दीवाली उत्सव समूह सूची 57 16

हल

आनंद. ध्वनि सूची 382.25

घुमन 270.1

टीस 392 13

नोक 270 8

बाण. अग्रभाग 926.18

ललकार 373.14

लौह कील 1016.14

शारीरिक पीड़ा 392.4

हुलना

गङ्गाना 1016.38

धकेलना 1051 28

हुषा

अप्रवीण 304.9

धृष्ट 734 20

फुहड़ 403 5

मूर्ख 302 7

हुड़

गुराहट 298 18

हुड़

गंधर्व सूची 778 5

हुत

अतग्रहीत 1002 27

अपहृत 862 7

आश्चर्यित 379 8

चुरा [चुरी] 864 51

छलित 827 23

लुब्ध 359 30

संग्रहित 669 19

हुतमानस

मूर्च्छित 264 23

हुत होना

चोरी होना 864 43

हुति

अधिग्रहण 635.1

अपनयन 1053.3

अपहरण 862 1

घटान कर्म 954 6

चोरी. घटना 864.2

पहुँचाई 1053.5

हुत्कंप

हुत्कंप 1039.5

हुत्ताप

मनोव्यथा 391 7

हुत्पिंड

हुत्पिंड 146.5

हुत्स्त्रंभ

हुत्स्त्रंभ 249.9

हुत्स्यगम

सुंदर 157.7

हुत्स्यगमन

रटत 356.4

हुत्स्य

अंतरात्मा 351.4

अंतर्भाग 999.4

आत्मा 763 1

कलेजी 206.29

प्रेमपात्र 369.4

प्रेमिका 368 3

मन 351 2

सार 84 16

स्वभाव 836 4

हुत्स्य 146.5 ⇨

हुत्स्य कंप

हुत्स्य कंप 1039.5 ⇨

हुत्स्य गति

हुत्स्य स्पंदन 1039 4

हुत्स्य गति अवरोध

हुत्स्य रोध 249.9

हुत्स्यग्राहिता

सुंदरता 157 1

हुत्स्यग्राही

आनंदप्रद 382.18

सम्मोहनपूर्ण 367.7

सुंदर 157 7

हुत्स्य निकेतन

कामदेय 773.12

हुत्स्य परिवर्तन

हुत्स्य परिवर्तन 344.4 ⇨

हुत्स्य भंजक

हुत्स्य भंजक 391.34 ⇨

हुत्स्य भंजन

हुत्स्य भंजन 391.17 ⇨

हुत्स्य भंजित होना

हुत्स्य भंजित होना 391.22 ⇨

हुत्स्य रोग

हुत्स्य रोग 163.38 ⇨

हुत्स्य रोध

हुत्स्य रोध 249.9 ⇨

हुत्स्य वल्लभ

प्रेमपात्र 369 4

हुत्स्यवान

कोमलहुत्स्य 834 15

हुत्स्य विदारक

हुत्स्य भंजक 391 34

हुत्स्य विदारण

हुत्स्य भंजन 391 17

हुत्स्य वैधन

हुत्स्य भंजन 391 17

हुत्स्य रीधिस्य

शिख्रता 380 2

हुत्स्य सन्नानी

पत्नी 803 6

हुत्स्य सन्नोट

प्रेमपात्र 369 4

हुत्स्य से

मनत 351 9

हुत्स्यस्थ प्राण

प्राण तत्त्व 245.1

हुत्स्य स्थल

वक्ष 146.1

हुत्स्य स्पंदन

हुत्स्य स्पंदन 1039.4 ⇨

हुत्स्यस्पर्शी

भावपूर्ण 358.25

हुत्स्य भंजक 391 34

हुत्स्यहारी

सम्मोहनपूर्ण 367 7

हुत्स्यहीन

कठोरहुत्स्य 835.11

कठोरहुत्स्य (प्रेमपात्र) 369.8

हुत्स्यहीनता

निर्दयता 835.2

हुत्स्यामय

हुत्स्य रोग 163 38

हुत्स्यालु

कोमलहुत्स्य 834.15

दानवीर 641.28

भावुक 358.26

हुत्स्यी

कोमलहुत्स्य 834 15

दानवीर 641.28

भावुक 358 26

हुत्स्यीय

हुत्स्यीय 146 13 ⇨

हुत्स्येश

प्रेमपात्र 369:4

हुत्स्येश्वर

पति 803 5

हुत्स्येश्वरी

पत्नी 803 6

प्रेमपात्रा 369 5

हुत्स्यगत

प्रिय 369 7

हुत्स्यगम

आनंदप्रद 382 18

हुत्स्य

आनंदप्रद 382 18

घनिष्ठ 704 27

प्रिय 369 7

लाङ्का [लाङ्की] 721 15

सम्मोहनपूर्ण 367.7

हुत्स्योग

हुत्स्य रोग 163 38

हुत्स्यसास

हिचकी 386.13

हुत्स्य स्पंदन 1039 4

हुत्स्यित

आनंदित 382.17

हुत्स्यीक

इन्द्रिय 268.1

कृष्ण 771.1

स्थिरचित्त 355.6

हुत्स्यीकेश

ईश्वर 764.1

कृष्ण 771 1

पीच 43 16

विष्णु 88 1  
स्थिरत 355.6  
द्वष्टपुत्र  
वक्ति 160.10  
द्वष्टम  
प्रज्जमित 837.16  
द्वष्टमा  
सुर सूची 783 8  
हे  
टरा 595 14  
पटेला 563 5  
गा  
मत्स्य आखेट काँटा 252 17  
हे  
हाय 386 12  
हेअर कटिंग सीलून (ऑ)  
केश कर्तनालय 224.4  
हेअर क्लिप (ऑ)  
हेअर क्लिप 223 11  
हेअर क्लिपिंग (ऑ)  
केश कर्तन 224 3  
हेअर नेट (ऑ)  
हेअर नेट 223.12  
हेअर पिन (ऑ)  
हेअर पिन 223.13  
हेअर स्टाइलिस्ट (ऑ)  
केश शैलीकार 223 21  
हेकड  
धृष्ट 734 20  
हेकडीबाज़ 734 23  
हेकडी  
प्रताप 849 5  
हेकडी 734 10 ⇨  
हेकडी घलाना  
हेकडी घलाना 734.13 ⇨  
हेकडीदार  
हेकडीबाज़ 734 23  
हेकडीबाज़  
हेकडीबाज़ 734.23 ⇨  
हेच  
अधम 840 4  
अनुपयोगी 525.8  
नगण्य 853 10  
हेचपोच  
क्षमताहीन 488.15  
हेठ  
अनुपयोगी 525.8  
अवरोध 1047.8  
दुर्दशाग्रस्त 627.22  
सारहीन 84.20  
हेठा [हेठी]  
अधम 840.4  
अनुपयोगी 525.8  
अप्रतिष्ठित 850 5  
कनिष्ठ 229.26  
क्षमताहीन 488.15  
दुर्दशाग्रस्त 627.22  
नगण्य 853.10

हेठी  
अपमान 855 1  
मानहानि 855.3  
हेड  
गाय समूह 690 11  
हेकी  
गाय समूह 690.10  
पशु समूह 690.9  
हेत  
प्रेम 368 1  
हेति  
आयुध 922.1  
आहति 168.1  
गंधर्व सूची 778.5  
मनोघात 354.3  
राक्षस सूची 784 4  
व्रण 167 12  
हेति 784.22 ⇨  
हेति प्रहेति  
असुरादि जोडी सूची 783.4  
हेतु  
कारण 507 3  
तर्क 325 1  
तर्काधार 325 7  
पूर्व पक्ष 324.11  
प्रमाण 327.1  
प्रयोजन 508 1  
हेतु अनुमान  
आगम तर्कण 325 12  
हेतुक  
कारणभूत 507 6  
तार्किक 325 24  
हेतुता  
कारणता 507 7  
हेतुता  
कारणता 507 2  
हेतुमदनुमान  
आगम तर्कण 325.12  
हेतुवाद  
विवेकवाद 325.16  
शास्त्रार्थ 324 6  
हेतुवादी  
विवेकवादी 325.25  
हेतु शास्त्र  
तर्क शास्त्र 325 17  
हेतु से निर्णय तक सक्षम तर्कण  
अनुक्रम तर्कण 325.11  
हेतुहीन  
कारणहीनता 507.8  
हेतुहीनता  
प्रयोजनहीनता 509.1  
हेतुहेतुमदभाव  
कारण कार्य भाव 507.1  
हेत्वाभ्रस  
कुतर्क 325 3  
हेमंत  
हेमंत काल 53.5

हेमंत (मार्गशीर्ष पीच)  
छः ऋतु सूची 51.15  
हेमंत काल  
हेमंत काल 53.5 ⇨  
हेमंत कालीन  
हेमंत कालीन 53.16 ⇨  
हेमंतीय  
हेमंत कालीन 53 16  
हेम  
स्वर्ण 95.4  
हिमीय 90.15  
हेमकोश्या  
प्युपा 242 4  
हेमगिरि  
सुमेरु 17.17  
हेमज  
टीन 94.6  
रांगा 94 13  
हेमजट  
किरात जाति 732 5  
हेमज्वाल  
अग्नि 106 1  
हेमवता  
अप्सरा सूची 782 3  
हेमदुग्धी  
गूलर 190 16  
हेम पुष्प  
अमलतास 13.3  
गुल दाऊदी 14.10  
हेम पुष्पक  
लोघ्न 14 24  
हेम माक्षिक  
सोनामाखी 92.11  
हेमरेणु  
ऋररेणु 100.7  
हेमल  
कसीटी पत्थर 566.9  
गिरगिट 123 3  
छिपकली 123 7  
हेम सुता  
पा 'त' 778 9  
हेमांग  
गरुड 777.15  
ब्रह्मा 786.1  
विष्णु 788.1  
हेमांड  
ब्रह्मांड 1.1  
हेमा  
अप्सरा सूची 782.3  
सुंदर स्त्री 157 2  
हेमाम  
स्वर्णिम 289.68  
हेमियानी  
रुपया धैली 672.10  
हेय  
अधम 840.4  
अनुपयोगी 525.8  
नगण्य 853.10

परित्याज्य 1003.5  
सारहीन 84.20  
हेयरपिन बैंड (ऑ)  
तीखा मोड़ 974.11  
हेरब  
गणेश 773.27  
बोधिसत्व सूची 793.16  
हेकडीबाज़ 734.23  
हेरब जननी  
दुर्गा 776.7  
पार्वती 776.9  
हेरना  
कसीटी पर कसना 566.15  
खोजना 336.17  
ताकना 284.41  
प्रतीक्षा करना 1057.5  
हेरफेर  
उथल पुथल 532.4  
घोटाला 865.8  
दौवपेंच 819 11  
प्रतिवर्तन 532.9  
रद्दी बदल 532.5  
हेराफेरी  
कुटिलता 818.3  
घोटाला 865.8  
छल 827.7  
दौवपेंच 819.11  
रद्दी बदल 532.5  
हेरोइन (ऑ)  
हेरोइन 212.10  
हेलन  
अपमानन 855.2  
हेलना  
उपेक्षा 185.2  
क्रीडा करना 469.10  
तैरना 483.25  
हेलनीय  
अपमान्य 855 12  
हेलमेल  
घनिष्ठता 704.13  
घनिष्ठता 704.13  
परस्परता 703 1  
मिलनसारिता 696.8  
संगति 696.1  
हेला  
अपमान 855.1  
अपज्ञा 348.1  
उद्बोधन 499.3  
क्रीडा 469.4  
टिप्पला 1052.11  
फ्रियाद 350.9  
लीला 506.8  
सुख 390.2  
हेलि  
आलिगन 237.8  
सूर्य 8.1  
हेलिक  
सूर्याय 8.9

## हेलित

- हेलित  
अपमानित 855 11  
अयशाकृत 348 6  
उपेक्षित 185.7
- हेलीक  
सूर्याय 8.9
- हेलीपोर्ट (ऑ)  
हेलीपोर्ट 1069 18
- हेली मेली  
सगी 896 2
- है  
है 86.5 ⇨
- हैंगर (ऑ)  
प्रातबन सूची 1024 5
- हैंगार (ऑ)  
हैंगार 1069 32
- हैंगिंग (ऑ)  
प्रलंबित 1024.10
- हैंगिंग ब्रिज (ऑ)  
झूला पुल 1065 11
- हैड (ऑ)  
घडी सूई 50.27
- हैडकक (ऑ)  
हथकडी 868 28
- हैड ग्रेनेड (ऑ)  
हैड ग्रेनेड 927 14
- हैड टूल्स (ऑ)  
हस्तोपकरण 558.9
- हैडनोट (ऑ)  
ऋण पत्र सूची 633 15
- हैडपंप (ऑ)  
घोषाकल 19 16
- हैडबिल (ऑ)  
हैडबिल 442 12
- हैडबुक (ऑ)  
प्रक्रिया पुस्तक 446.22
- हैडबैग (ऑ)  
बटुआ 672.9  
हैडबैग 673 9
- हैडल (ऑ)  
हस्ताश्रय 596.23
- हैडलूम (ऑ)  
हथकरघा 562.16
- हैडरीक (ऑ)  
हस्त आलिंगन 1060 10
- हैडीक्राफ्ट (ऑ)  
हस्त शिल्प 557.9
- हैफ  
हॉफ 245 14
- है  
है 86.3 ⇨
- हैकड  
हैकडीबाज़ 734.23
- हैकल  
सिक्का कठहार 228.29
- हैक्टैर  
हैक्टैर 959.38 ⇨
- हैक्टैर: 100  
वर्ग किलोमीटर 959.43
- हैक्टोग्राम (ऑ)  
हैक्टोग्राम 962.58
- हैक्स (ऑ)  
बोडरा लव प्रणाली 950 8
- हैग्राम (बीज रूप)  
हैक्टोग्राम 962.58
- हैज़ा  
हैज़ा 215.28 ⇨
- हैज़ा (दे.)  
वमन 215 26
- हैट (ऑ)  
टोप 584 3
- हैड (ऑ)  
लेखा शीर्षक 632 4
- हैड आफिस (ऑ)  
प्रधान कार्यालय 654.5
- हैड क्लर्क  
हैड क्लर्क 652.37 ⇨
- हैड मास्टर (ऑ)  
प्रधान अध्यापक 323 15
- हैडिंग (ऑ)  
समाचार शीर्षक 447 18
- हैडिब  
घटोत्कच 771 54
- हैडुक  
तर्क शास्त्री 325.26  
मीमांसक 427 30
- है...तो  
कारण कार्य उक्ति सूची 507 20
- हैदराबाद  
आग्र प्रदेश राजधानी 28 14
- हैबत  
आतक 395 5
- हैबतनाक  
विकराल 154.23
- हैमंत  
हैमंत काल 53.5  
हैमंत कालीन 53 16
- हैम  
स्वर्णिम 289.68  
हिम 90 1  
हिमीय 90 15  
हैम 571.47 ⇨
- हैम (ऑ)  
हैम 571.47
- हैमक (ऑ)  
जाली झूला 1034.4
- हैमन  
मार्गशीर्ष 43 15  
हिमाच्छन्न 90.17
- हैम बर्गर (ऑ)  
हैम बर्गर 202.36
- हैमबत  
बौद्ध संप्रदाय सूची 737.15  
मोती 97.2  
हिमाच्छन्न 90.17
- हिमीय 90.15
- हैरंब  
गणेश 773.22  
गणेशीय 773 54
- हैरप्य  
स्वर्णिम 289 68
- हैरत  
आश्चर्य 379.1  
आश्चर्यितता 379.2
- हैरतअंगेज़  
विलक्षण 312 16
- हैरान  
आश्चर्यित 379.8  
दुबिधाग्रस्त 501.8  
परेशान 519.21  
प्रमित 342 10
- हैरान होना  
खोज मे भटकना 336.18  
बहुविध प्रयत्न करना 489.6
- हैरानी  
आश्चर्य 379 1  
आश्चर्यितता 379 2  
बहुविध प्रयत्न 489.3  
भ्रम 342.1
- हैरिंग (ऑ)  
हैरिंग 125 17
- हैल (ऑ)  
नरक 259 6
- हैलिकोप्टर (ऑ)  
हैलिकोप्टर 1074 6
- हैलुसिनेशन (ऑ)  
माया दर्शन 342 4
- हैल्म (ऑ)  
कर्ण 1073 2
- हैल्मेट (ऑ)  
लौह शिर कवच 921 6  
शिर कवच 921.5
- हैबरसीक (ऑ)  
हैबरसीक 673.4
- हैवान  
जीव 121.4  
मूर्ख 302.7  
वन्य पशु 127.2
- हैवानियत  
वन्यता 734.5
- हैवानी  
वन्यतापूर्ण 734.17
- हैवी वाटर (ऑ)  
भारी जल 88.4
- हैशिवा (ऑ)  
हरीश 212.9
- हैसबैस  
वितंडा 324.5
- हैसियत  
क्षमता 487 7  
जीवन स्तर 625.1  
धन संपत्ति 624.10  
प्रतिष्ठा 849.2
- समृद्धि 626.1
- हैसियतदार  
प्रतिष्ठित 849.15
- हैस्य  
कार्तवीर्य 769.31
- हैस्य राज  
कार्तवीर्य 769.31
- हैस्य  
कार्तवीर्य 769.31
- होंगे  
होंगे 87.6 ⇨
- होंड  
ओष्ठ 143 2  
बरतन चोच 680.23
- होंडार घका  
जग 679.14
- होंटी  
कगार 1000.8  
छिद्र मुख 271 15  
बरतन चोच 680.23
- होंटों की लाली  
पान: लाली 213.23
- होई  
अहोई 774 11
- हो कर  
मार्ग से 1098.26
- हो कर रहना  
अवश्य होना 68.11
- होगा  
होगा 67.4 ⇨
- होगा [होगी]  
होगा 67 4
- हो चुका  
अतीत 63 8
- होज़ियरी (ऑ)  
बनियान कपड़ा 579.19  
बुनाई. विधि सूची 576.3
- होटल (ऑ)  
रेस्तोराँ 194.8  
होटल 1090.35
- होड  
दौव 481.17
- होड  
नीका 1072.2
- होड  
प्रतियोगिता 707.2
- होडका  
तीव्र मिलन अभिलाषा 1057.4  
हुडक 386.14
- होड बबना  
प्रतियोगिता करना 707.6
- होडा  
डकैत 864.20  
लुटेरा 864.22  
लूटू पूटू 864.53
- होका शास्त्र  
समय विज्ञान 41.8



## होश हवास

लब्धधेता 263.13  
होश हवास  
धेतना 283.4  
होशियार  
अनुभवी 303.17  
प्रवीण 303.22  
बुद्धिमान 301.21  
भुक्तभोगी 363.16  
युक्ति कर्ता 517.10  
युद्ध सन्नद्ध 907.43  
साधधान 497.4  
होशियारी  
कूटनीति 819.1  
प्रवीणता 303.8  
बुद्धिमत्ता 301.5  
युक्तिपूर्णता 517.2  
युद्ध सन्नद्धता 907.5  
व्यवहार कुशलता 828.3  
साधधानी 497.1  
हो सकना  
व्यावहारिक होना 828.6  
संभावना होना 88.9  
साध्य होना 518.13  
होस्तोरी 194.8  
होस्ट [होस्टेज] (अं)  
परोस कर्मी सूची 183.21  
होस्ट (अं)  
सभा संचालक 694.20  
होस्टल (अं)  
होस्टल 1090.37  
होस्टल वाली  
छात्रावासी 321.40  
होहत्सा  
कोलाहल 294.8  
होफना  
अग्नि उदीप्त करना 107.12  
होफना 245.22  
होस  
उत्साह 491.1  
खुश 353.11  
भोग लिप्सा 383.4  
युद्ध उत्साह 907.3  
लालसा 359.5  
होसला  
उत्साह 491.1  
साहस 394.1  
होआ  
भयानक वस्तु 395.8  
होआ 785.8

होबूट (अं)  
होबूट 1062.16  
होकर (अं)  
फेरी वाला 861.14  
होकी  
होकी 477.23 ⇨  
होज  
जलकुंड 679.39  
टब 679.30  
होज 18.14 ⇨  
होज काजी (बोलचाल)  
कांजी हाउस 603.22  
होट केस (अं)  
होट बौक्स 671.16  
होट जोग  
होट जोग 202.37 ⇨  
होट ब्रिक (अं)  
गरम पेय 208.2  
होट बौक्स  
होट बौक्स 671.16 ⇨  
होट वाटर बोटल  
होट वाटर बोटल 104.8 ⇨  
होट हाउस (अं)  
ग्रीन हाउस 551.3  
होताशानि  
नील 781.12  
स्कद 773.50  
होद  
जलकुंड 679.39  
टब 679.30  
नौद 679.36  
पशु पानी का होज 18.16  
होज 18.14  
होदा  
होदा 595.53 ⇨  
होधी (अं)  
होधी 469.8  
होरिजॉन्टल बार (अं)  
घोड़ी 485.14  
होरिजॉन्टल (अं)  
अनुकूलित 1020.12  
होर्न  
होर्न 461.92 ⇨  
होर्न ध्वनि  
होर्न ध्वनि 256.16 ⇨  
होर्स पावर (अं)  
अश्वबल 101.4  
होर्स रेस (अं)  
पुडदोड 484.4

पुडदोड 1082.6  
होल  
आतंक 395.5  
सहम 395.3  
होल खोल  
हडबडी 496.6  
होलदिल  
उद्विग्न 377.13  
भय कपित 395.20  
हृदय कंप 1039.5  
होलदिला  
कापुरुष 395.29  
होलनाक  
भयानक 395.25  
होले  
सावधानतः 497.6  
होले होले  
शिथिल गति से 1045.17  
होबा  
आदम पत्नी 791.7  
होआ 785.8  
होबा 236.5 ⇨  
होबा की बेटी  
स्त्री 236.3  
होसला  
मनोबल 394.4  
होसला अक्रपाही  
शाबाशी 841.21  
होसलामंद  
मनोबलयुक्त 394.14  
होसले पस्त होना  
साहस दूटना 395.17  
होसले वाला  
मनोबलयुक्त 394.14  
हनय  
सत्य अपलाप 821.6  
हनुति  
सत्य अपलाप 821.6  
हनोता  
अपलापक 821.18  
गोपयिता 824.22  
हद  
नितल गड्ढा 985.12  
हसित  
घटाया [घटाई] 954.14  
लघुकृत 980.23  
संक्षिप्त 980.24  
हस्त  
हस्त 531.11 ⇨

## ह्लादी [ह्लादिनी]

हस्त्य  
अल्पोच्य 982.9  
घटाया [घटाई] 954.14  
लघुकृत 980.23  
हस्त्य मात्रा युक्त 410.24  
हस्त्य ताल  
लघु ताल 458.49  
हस्त्य मात्रा  
लघु मात्रा 452.39  
हस्त्य मात्रा 410.19 ⇨  
हस्त्य मात्रा युक्त  
हस्त्य मात्रा युक्त 410.24 ⇨  
ह्लाद  
हिरण्य कशिपु पुत्र सूची 789.2  
ह्लादिनी  
मेघ विद्युत 55.9  
ह्लास  
नाश 531.1  
ह्लास 531.3 ⇨  
ह्लासक  
नाशक 531.8  
ह्लासक 531.13 ⇨  
ह्लासगत  
हस्त 531.11  
ह्लासन  
घटान कर्म 954.6  
लघुकरण 980.4  
ह्लासशील  
ह्लासशील 531.12 ⇨  
ह्लास होना  
ह्लास होना 531.6 ⇨  
ह्री  
लज्जा 845.1  
लज्जाशीलता 845.2  
व्याहृति सूची 741.24  
ह्री 775.7 ⇨  
ह्लाद  
आनंद 382.1  
स्फूर्ति 491.2  
हिरण्य कशिपु पुत्र सूची 789  
ह्लादक  
आनंदप्रद 382.18  
ह्लादित  
आनंदित 382.17  
प्रसन्न 381.7  
ह्लादी [ह्लादिनी]  
आनंदप्रद 382.18  
क्रीडामय 469.16  
प्रसन्न 381.7

॥ इति शुभम् ॥



हिंदी में कहली बार

## मनोखी शब्द शक्ति

समांतर कोश  
आप को देता है

- आप के मचलते भावों को शब्द
- एक के बदले कई शब्द
- अनुपयुक्त की जगह सही शब्द
- कठिन के स्थान पर आसान शब्द
- चलताऊ की जगह टकसाली शब्द
- आवश्यकता हो तो विपरीत शब्द
- डेर सारे संबंधित शब्द

अब कोई शब्द आप की पहुँच से दूर नहीं रहमा

मूल्य 23.759 रुपयों में 1,60,850 अक्षरों में दो खंडों में 14268 पृ

समांतर कोश  
अपने आप में व्यवहार कोश भी  
और छोटे मोटे विकल्प भी

